

Published by  
DALSUKH MALVANIA  
Secretary  
PRAKRIT TEXT SOCIETY,  
VARANASI-5

SECOND EDITION—1963  
ALL RIGHTS RESERVED

*Students Edition Rs. 20/-*  
*Library Edition Rs. 30/-*

*Available from .—*

1. MOTILAL BANARASI DASS, NEPALI KHAPRA, POST BOX 75, VARANASI
2. CHOWKHAMBA VIDYABHAVAN, CHOWK, VARANASI,
3. GURJAR GRANTHARATNA KARYALAYA, GANDHI ROAD, AHMEDABAD-1
4. SARASWATI PUSTAK BHANDAR, RATANPOLE, HATHIKHANA, AHMEDABAD-1

*Printed at*  
THE TARA PRINTING WORKS  
VARANASI

# पाइअ-सद्-महर्णावो

( प्राकृत-शब्द-महार्णवः )

अर्थात्

विविध प्राकृत भाषाओं के शब्दों का संस्कृत प्रतिशब्दों से युक्त,  
हिन्दी अर्थों से अलंकृत, प्राचीन ग्रन्थों के अनल्प अवतरणों  
और परिपूर्ण प्रमाणों से विभूषित बृहत्कोष

कर्ता—

गुर्जरदेशान्तगंत-राधनपुर-नगर-वास्तव्य, कलकत्ता-विश्वविद्यालय के संस्कृत,  
प्राकृत और गुजराती भाषा के अध्यापक, "हरिभद्रसूरिचरित्र" के कर्ता,  
"यशोविजय-जैन-ग्रन्थमाला" और "जैन-त्रिविध-साहित्य-  
शास्त्रमाला" के भूतपूर्व संपादक, न्याय-व्याकरण-तीर्थ

स्व० पंडित हरगोविन्ददास त्रिकमचंद सेठ

संपादक

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल

प्राध्यापक, काशी विश्वविद्यालय

पं० दलशुख भाई मालवणिया

संचालक, लालभाई दलपतभाई विद्याभवन, अहमदाबाद-१

प्रकाशिका

प्राकृत ग्रन्थ परिषद्,

वाराणसी-५

प्रकाशक

दलमुख मालवणिया

सन्धी, प्राकृत टेन्स्ट सोसायटी

वाराणसी-५

द्वितीय संस्करण—१९६३

सर्व स्वत्व संरक्षित

मूल्य—साधारण संस्करण २०)

पुस्तकालय संस्करण ३०)

प्राप्ति स्थान

१. मोतीलाल बनारसीदास, नेपाली खपडा, पोस्ट बाक्स ७५, वाराणसी ।
२. चौखम्बा विद्या भवन, चौक, वाराणसी ।
३. गुजर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, गांधी मार्ग, अहमदाबाद-१
४. नरन्वती पुस्तक मंडार, रतनपोल, हाथीखाना, अहमदाबाद-१

मुद्रक

तारा प्रिंटिंग वर्क्स,  
कमच्छा, वाराणसी-१





# समर्पण

प्राकृत भाषा का यह महाकोश

स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा प्राकृत-ग्रन्थ-परिषद् ( प्रा०टे०सो० ) के  
सस्थापक एवं प्रधान संरक्षक, भारतीय सस्कृति के अनन्य श्रद्धालु देशरत्न

स्व० डॉ० श्रीराजेन्द्र प्रसाद जी

को सादर समर्पित है,

जिनकी अध्यक्षता में इस कोश के पुनः मुद्रण का निश्चय किया

गया और जिनके करकमलो से इसका प्रकाशन समारोह

सम्पन्न होना प्रस्तावित था, किन्तु दैवेच्छा से २८

फरवरी १९६३ को जिनका स्वर्गवास हो जाने

के कारण अब परिषद् की ओर से यह

श्रद्धाञ्जलि रूप में समर्पित किया

जा रहा है ।

—प्राकृत ग्रन्थ परिषद् के सदस्य



## PREFACE

The Pāia-saddā-mahannavo ( पाइय-सद्-महणवो ) is a comprehensive Prākṛit-Hindi Dictionary which was compiled by Pandit Hargovind Das T Seth, Professor of Prākṛit at the Calcutta University, as a result of painstaking scholarship extending over many years. Its first edition was printed in 1928 and since then it served the needs of a practical Prākṛit dictionary for all students of this great language and literature of India. The book had been out of print for many years and rare copies were offered at fabulous prices. During my preparation of the Sañjivani commentaries on two old Hindi texts, viz Padmāvat of Malik Mohmad Jayasī (1527 A D) and Kirtilatā of Vidyāpatī (circa 1420 A.D.), I was confronted with the problem of discovering the meaning of hundreds of old-Hindi words which no existing Hindi dictionary records or explains. It was then that the Pāia-saddā-mahannavo to which I turned as the wish-fulfilling thesaurus seldom failed me. I then realised that the knowledge of Prākṛit is an ambrosia for understanding not only the Old-Hindi literature but also the literature in Old-Rajasthani, Old-Gujarati, Old-Marathi, Old-Bengali, Old-Maithili etc., and in fact for all the languages of the Middle Indo-Aryan group. I then decided in my mind that a new edition of the Pāia-saddā-mahannavo should be brought out so as to make it accessible to the general students and teachers of this language in the Indian Universities where the number of persons working on these texts is happily on the increase from year to year. I broached this topic at a meeting of the Prākṛit Text Society held in April, 1962 at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, under the chairmanship of the Society's Chief Patron, the Late Dr. Rajendra Prasadji. As a supporter of all good causes he readily agreed to the proposal and it was then decided that this valuable dictionary of the Prākṛit language should be reprinted. I volunteered to organise its printing work at Varanasi under my own direction. Happily this became possible with the ready co-operation of Pt Dalsukhabhai Malavania, Secretary of the Prākṛit Text Society. For this purpose the proprietors of the well established Tara Printing Works, Varanasi, placed the resources of their press at our disposal with the result that within the space of six months a Dictionary of such magnitude has completely been printed off. In this edition some new words have been inserted by the courtesy of Pt Dalsukhabhai Malavania. Another fact worth recording is that the matter amounting to 78 pages printed as Paṛiśiṣṭa in the first edition has now been incorporated in its proper place under an alphabetical arrangement, and the instructions given in 15 pages of Corrigenda (Suddhipatra) have also been carried out in the body of the Dictionary.

The present editors gratefully remember the pioneer work of Sri Hargovind Das Seth whose single-minded devotion and indefatigable labour created a Dictionary of such thorough-going extent. But they are also conscious of the fact that a new scientific dictionary of the Prākṛit language, which should include also the Apabhraṃśa language and literature is required. Since 1928 when Sri Seth put down his pen, a whole library of new Prākṛit and Apabhraṃśa texts with commentaries has come to light. It is a veritable treasure for new words, phrases and references, and quite a number of these texts are still in manuscript form preserved in the Jain Bhandars at different centres in India. Their critical editions have to be undertaken and



their literally value has to be assessed specially from the point of view of new words and meanings incorporated in them. The interpretation of the texts already known when the first edition of the Dictionary was compiled has also progressed and the technical meanings of many words have been recovered. They need to be incorporated in a revised edition or in a new presentation of word material of the Prākṛit language as recorded in its literature. The problem is no doubt vast requiring stout organization and finances but the work has to be done. The Govt of India, various Universities, Prākṛit Institutes and the All-India Oriental Conferance should put their heads together for evolving a scheme for the accomplishment of this task, viz the preparation of an up-to-date dictionary on scientific principles of the Prākṛit and Apabhraṁśa literatures which have contributed so much to the Middle Indo-Aryan languages and which truly hold the key to the problem of etymology and semantics relating to the many literary dialects of the medieval and modern period.

It is gratifying that a rich literature of such magnitude as that of Prākṛit has been preserved as our heritage and it is high time when we should wake up to our responsibility. The Prākṛit Text Society is keenly alive to this need but it has already committed itself to the publication of the critical texts of the Āgamas and their commentaries and therefore its resources for some years cannot be diverted to the needs, however urgent they may be, of a fresh dictionary of Prākṛit language as envisaged above.

I cannot close this short statement without making a special appeal to those friends who are engaged on an intensive study of the difficult texts of Old-Hīndī, Old-Gujarātī etc. They should cultivate the habit of going to the Prākṛit and Apabhraṁśa sources for recovering the meanings of the obscure vocabulary used in those texts which were written at a time when Prākṛit and Apabhraṁśa words found a predominant place in the linguistic consciousness of the people. I would give a few examples —

1. “घरनी सरग जॉत पर दोऊ” । (Padmāvat 149 4) The crux of the meaning of the simple line like this lies in the word *para* meaning to turn, as घात्वादेश of Skt *bhrama* (परइ = भ्रमति, Hemchandra, 4.16, Pāsadda)—the earth and the sky both are turning like a mill.

2. “नाइत मॉक मँवर हॉत गोवॉ । सरजँ कहा मँद यह जोवॉ ॥” This is one of the most difficult lines of the Padmāvat and it had never been correctly understood by any previous translator. The secret of the meaning lies in the word नाइत (wrongly translated previously as ‘bends’) which as recorded in the Pāsadda, denoted a naval merchant. The meaning is that to take a sea-faring merchant in the midst of the ocean and there to kill him, is a mean thing, said Sarja (the Chief of Alauddīn). The meaning of this word is recorded in the Pāsadda with only one reference to Haribhadra Suri (8th century), but I thought that its usage in the Padmāvat in the 16th century must be evident in the literature of the intervening period. My search proved fruitful and I found it in the Bhavīsyata Kahā of Dhanapāla (तो कय विक्रय दाय सइतई । अहिमुख मिलिय सयल नाइतई ॥ Bhavīsyata Kahā, 8 31 1, Baroda edition, p. 52—then the sea merchants met together and began to discuss joyfully their problems of sale and purchase. The word has also been used in the Apabhraṁśa poem Paum-chariu—पायार भूपहि पुर जाइतेण (Pauma-chariu 317 1., Singhī Jain Granthamālā). On an inscription from Anhilavada dated VS 1348 its Skt form Nau-vittaka has been used (Indian Antiquary, 1912, p. 21), and

Muni Chandia in his commentary on Haribhadra's Upadeś-pada record a नौवित्तक as the Skt. form of *Nāyatta*. This accumulation of evidence is the proper field of a dictionary and it is of value to show how our correct understanding of the old-texts may benefit from utilizing the Prākṛit and Apabhraṃśa sources. I should like to reinforce this point by drawing attention to some other words from the Avahatta text, Kīrtilatā of which in the recently published Sañjivani commentary\* much valuable assistance from the Pāia-sadda-mahannavo has been taken. To take another pointed example :

- ५० ६ उवइ = समीप आता है । सं० उप+ इ > प्रा० उवे, उवि = पास थाना । उवेइ, उवइ ( पासइ० ) ।
- ” १३ माण = अनुभव करना, जानना । सं० मानय् > प्रा० माण ( पासइ० ) ।
- ” ३२ साहउ—सं० साव = वश में करना > प्रा० साह > अत्र० साहउ ( पासइ० ) ।
- ” ४० चप्परि—सं० प्रा + क्रम् (= आक्रमण करना, दवाना ) का घात्वादेश चप्प, चप्परि = आक्रमण करके ( पासइ० ) ।
- ” ४३ सम्पजो—सं० सम्+अर्पय् = अर्पण करना, देना > प्रा० सम्प्य > अप० सम्प, सपजो ( पासइ० ) ।
- ” ६५ पेल्लिअ—सं० पूरय् (> पूरा करना ) का घात्वादेश पेल्ल, पेल्लइ ( पासइ० ) । प्राकृत में पेल्ल धातु के चार अर्थ हैं—१ सं० क्षिप् का घात्वादेश पेल्ल = फेंकना । २ सं० प्रेरय् का घात्वादेश पेल्ल = प्रेरित करना । ३ सं० पीडय् का घात्वादेश पेल्ल = दवाना । ४ सं० पूरय् का घात्वादेश पेल्ल = पूरा करना, भरना ।
- ” ७६ लूर—सं० लुठ > प्रा० लुड > अप० लूर = लुडकना, लोटना ( पासइ० ) ।
- ” ६६ रिज—सं० रिष > प्रा० अप० रिज्झ = रीझना, प्रसन्न होना, रिज्झइ ( पासइ० ) ।
- ” १२३ छाहर = सुन्दर । सं० छाया (= कान्ति, शोभा ) > प्रा० छाया ( पासइ० ) ।
- ” १२४ विव्यरि—विथुरे हुए । सं० विस्तु > प्रा० वित्यर = फेलाना, बढाना ( पासइ० ) ।
- ” ” थारे—गर्विले, गविष्ठ, अरमानो, रोवदाव वाले । सं० स्तव्य > प्रा० थड्ड ( पासइ० ) > थड्ड > थाड > थार + अ = थारा, थारे ।
- ” १५६ णिवाल्लिअ = निवट गया, चुक गया । सं० मुच् (= मुकना, चुकना ) का प्रा० घात्वादेश णिवल्ल ( पासइ० ) ।
- ” २३६ चप्परि—सं० आक्रम् का घात्वादेश चप्प = आक्रमण करना, दवाना ( पासइ० ) ।
- ” २४३ सहि—सं० आ—ज्ञा का प्रा० घात्वादेश सह = हुकुम देना, आदेश करना, फरमाना । सहइ ( पासइ० ) ।
- ” २५२ पल्लु—सं० प्रकटय् का घात्वादेश पल ( पासइ० ) सं० पत् का भी अप० में पल घात्वादेश होता है (= पडना, गिरना ) ।
- ” २५७ नचावहि—सं० ज्ञा धातु का घात्वादेश एच्चा, णच्चाण = पहचानना ( पासइ० ) ।
- ” २६५ दरमलिअ = मर्दित, चूर्णित । सं० मर्दय् का घात्वादेश प्रा० अप० दरमल = चूर्ण करना, दलना, मलना ( पासइ० ) ।
- ” २६१ घल—प्रा० घल्ल ( सं० क्षिप् का घात्वादेश ) = फेंकना, डालना, घालना ( पासइ० ) ।
- ” ४८ वोनए—सं० व्यतिक्रम धातु का घात्वादेश प्रा० वोल = उल्लघन करना, छोडना । वोलइ, वोलए ( पासइ० ) ।
- ” ७४ झूल = आन्दोलन, शोर । सं० शब्द 'आन्दोल' का प्रा० घात्वादेश झुल्ल ( पासइ० ) ।
- ” ६० छाज—सं० राज का घात्वादेश छज्ज = शोभना, शोभित करना ( हे० ४।१०० ) ।
- ” ६१ वोन—सं० गम् का घात्वादेश वोल = चलना, गमन करना ( पासइ० ) ।
- ” ६७ कडंता = पढने हुए । प्रा० कड्ड = पढना, उच्चारण करना, सं० कृप् का घात्वादेश कड्ड = पढना, उच्चारण करना ( हे० ४।१८७, पासइ० ) , भोजपुरी में 'कड़ाव, कड़ावा, कड़ाओ' अर्थात् गीत उच्चारण करो, अभी तक कहा जाता है ।
- ” १६१ पारइ—सं० शक् का प्राकृत घात्वादेश पार = सकना, समर्थ होना ( हेम० ४।५६ ) ।
- ” १६३ पेल्लिअरँ—सं० पूरय् का प्रा० घात्वादेश पेल्ल = पूरना, भरना ( पासइ० ) ।
- ” १७० ऋप—सं० विलप् का घात्वादेश प्रा० अप० ऋझ = विलाप ।
- ” २२३ तलप्य—सं० तप् का घात्वादेश तल्लप = तपना, गर्म होना ( पासइ० ) ।
- ” २७१ पअप्पइ = कहने लगा । सं० प्रजल्प का घात्वादेश पयप = कहना, बोलना । पयंपए, पयंपइ ( पासइ० ) ।
- ” २७२ पाषरे = ढोडे पर सन्नाह कसकर, अश्व को कवच से सज्जित करके । सं० सनाहय् का घात्वादेश पक्खर ( पासइ० ) ।
- ” २८२ मेरा—सं० मुच् का घात्वादेश प्रा० अप० मिल्ल, मेल्ल = छोडना, त्यागना ।
- ” २८४ थेन्व—दराड = सहारे की धूनी । सं० विगल का घात्वादेश थिप्प, थेप्प > थेन्व = टेक, सहारा ( पासइ० ) ।

“मपहूम नरावइ दोम जजो हाय ददस दस णारओ ॥” (Kīrtīlatā 2.190, Sañjivani edition). In this line all seven words excepting the first depend on their meaning on a good Prākṛit dictionary, e. g.

नरावइ—सं० नरकपति = प्रा० णरयवइ, णरअवइ, णरावइ—अवहट्ट नरावइ = नरकपाल, king of hell.,

दोम = to cause pain, from Sanskrit root दू—Prākṛit वात्वादेश दूम (Hemchandra 4 23),

जजो—Skt. यत् —Prākṛit जजो,

हाय = hastily, in quick succession, deśya Prākṛit ह्य (Desināma-mālā, 8.59, See Pāsadda).

Such a seemingly simple word cannot be understood without the help of Prākṛit.

In Hindi it means a hand, but its Prākṛit meaning was also as shown above, and that alone suits the context.

ददस—an Avahatta form of Arabic *hadas* signifying *hazrat* or showing the spirits

दस = shows, from Skt. दर्शय—Prākṛit दस्त—Avahatta दस.

णारओ = spirits living in hell, from Skt. नारक > Prākṛit णारय (Pāsadda)

The line thus means—the Makhdūm (religious priest) like the king of hell was frightening the people when quickly he was showing the spirits by performing *hadas*. This is an example which brings home how the problem of understanding the Middle Indo-Aryan literature is closely connected with our understanding of the Prākṛit and Apabhraṃśa literature. For this purpose the Pāia-Sadda-Mahannavo Dictionary will prove of inestimable help. With this hope it is now being offered in a Second edition which the Prākṛit Text Society is making available in an accessible form

The editors wish to record their grateful thanks to Shri Kapil Deva Giri, Sahityacharya, Asstt. Research Scholar P. T. S. and Pt. Madhvacharya Tarkatīrtha, Mimansācārya who have put in their best efforts in correcting the proofs of the work with praiseworthy devotion.

24-3-1963.

VASUDEVA S. AGRAWALA  
Professor,  
BANARAS HINDU UNIVERSITY

## संकेत—सूची

अ	=	अव्यय ।	( वै )	=	पैशाची भाषा ।
अक	=	अकर्मक धातु ।	प्रयो	=	प्रेरणाथक रिणन्त ।
( अप )	=	अपभ्रंश भाषा ।	व	=	बहुवचन ।
( अशो )	=	अशोक शिलालेख ।	भकृ	=	भविष्यत्कृदन्त ।
उम	=	सकर्मक तथा अकर्मक धातु ।	भवि	=	भविष्यत्काल ।
कर्म	=	कर्मणि-वाच्य ।	भूका	=	भूतकाल ।
कवकृ	=	कर्मणि-वर्तमान-कृदन्त ।	भूकृ	=	भूत-कृदन्त ।
कृ	=	कृत्य-प्रत्ययान्त ।	( मा )	=	मागधी भाषा ।
क्रि	=	क्रियापद ।	वकृ	=	वर्तमान कृदन्त ।
क्रिवि	=	क्रिया-विशेषण ।	वि	=	विशेषण ।
गु०	=	गुजराती ।	( शौ )	=	शौरसेनी भाषा ।
( चूपे )	=	चूलिकापैशाची भाषा ।	स	=	सर्वनाम ।
त्रि	=	त्रिलिङ्ग ।	सकृ	=	सवन्धक कृदन्त ।
[ दे ]	=	देश्य-शब्द ।	सक	=	सकर्मक धातु ।
न	=	नपुंसकलिङ्ग ।	स्त्री	=	स्त्रीलिङ्ग ।
पुं	=	पुलिङ्ग ।	स्त्रीन	=	स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिङ्ग ।
पुंन	=	पुलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग ।	हेकृ	=	हेत्वर्थं कृदन्त ।
पुस्त्री	=	पुलिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग ।			

“नयद्म नयवद् दोन जतो ह्यय ददस दस राखो ॥” (Kirtilatā 2190, Saṅgīvanī edition) In this line all seven words excepting the first depend on their meaning on a good Prākṛit dictionary, e. g.

नयवद्—सं= नरकनिधि = प्रा= परवद्, परवद्, परवद्—अवद् नयवद् = नरकनिधि, king of hell,

दोन = to cause pain, from Sanskrit root दू—Prākṛit दातादेय दून (Hemchandra 4 23);

जतो—Skt. जत—Prākṛit जतो,

ह्यय = hastily, in quick succession, deśy. Prākṛit ह्य (Desināma-mālā, 9.59, See Pāsadda).

Such a seemingly simple word cannot be understood without the help of Prākṛit.

In Hindi it means a hand, but its Prākṛit meaning was also as shown above, and that alone suits the context.

ददस—an Avahatīa form of Arabic *hadās* signifying *hazrat* or showing the spirits

दस = shows; from Skt. ददय—Prākṛit दद—Avahatīa दस.

राखो = spirits living in hell, from Skt. नारक > Prākṛit राख (Pāsadda)

The line thus means—the Makhḍūm (religious priest) like the king of hell was frightening the people when quickly he was showing the spirits by performing *hadās*. This is an example which brings home how the problem of understanding the Middle Indo-Aryan literature is closely connected with our understanding of the Prākṛit and Apabhraṁśa literature. For this purpose the Pāia-Sadda-Mahannavo Dictionary will prove of inestimable help. With this hope it is now being offered in a Second edition which the Prākṛit Text Society is making available in an accessible form.

The editors wish to record their grateful thanks to Shri Kapil Deva Giri Sahityacharya, Asstt. Research Scholar P. T. S. and Pt Madhvacharya Tarkatīrtha, Mimāṁsāchārya who have put in their best efforts in correcting the proofs of the work with praiseworthy devotion

24-3-1963.

VASUDEVA S. AGRAWALA  
Professor,  
BANARAS HINDU UNIVERSITY

## संकेत—सूची

अ	=	अव्यय ।	( पै )	=	पैशाची भाषा ।
अक	=	अकर्मक धातु ।	प्रयो	=	प्रेरणार्थक रिणजन्त ।
( अय )	=	अपत्र श भाषा ।	व	=	बहुवचन ।
( अशो )	=	अशोक शिलालेख ।	भकृ	=	भविष्यत्कृदन्त ।
उभ	=	सकर्मक तथा अकर्मक धातु ।	भवि	=	भविष्यत्काल ।
कर्म	=	कर्मणि-वाच्य ।	भूका	=	भूतकाल ।
कवकृ	=	कर्मणि-वर्तमान-कृदन्त ।	भूकृ	=	भूत-कृदन्त ।
कृ	=	कृत्य-प्रत्ययान्त ।	( मा )	=	मागधी भाषा ।
क्रि	=	क्रियापद ।	वकृ	=	वर्तमान कृदन्त ।
क्रिवि	=	क्रिया-विशेषण ।	वि	=	विशेषण ।
गु०	=	गुजराती ।	( शौ )	=	शौरसेनी भाषा ।
( चूपे )	=	चूलिकापैशाची भाषा ।	स	=	सर्वनाम ।
त्रि	=	त्रिलिङ्ग ।	सकृ	=	सवन्धक कृदन्त ।
[ दे ]	=	देश्य-शब्द ।	सक	=	सकर्मक धातु ।
न	=	नपुंसकलिङ्ग ।	स्त्री	=	स्त्रीलिङ्ग ।
पुं	=	पुलिङ्ग ।	स्त्रीन	=	स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिङ्ग ।
पुंन	=	पुलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग ।	हेकृ	=	हेत्वर्थ कृदन्त ।
पुस्त्री	=	पुलिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग ।			

## प्रमाण-ग्रन्थों [ रेफरेन्सेज़ ] के संकेतों का विवरण

संकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
अग	= अगविटका	प्राकृत ग्रन्थ परिपद्, वाराणसी—५, १९५७	..
अंग	= अंगवृत्ति	हस्तलिखित ।	..
अत	= अतः उदयप्रो	ॐ १ राँचन एसियाटिक सोसाइटी, लंडन, १९०७ २ आगमोदय-समिति, बंबई, १९२०	... पत्र
अञ्जु	= अञ्जुग्रन्थ	वाणोविलास प्रेस, मद्रास, १८७२	.. गाथा
अजि	= अजिग्रन्थ	न्व-संपादित, कलकत्ता, संवत् १९७८	..
अज्ज	= अज्यात्ममतपरीक्षा	१ भीमनिह मारुणक, संवत् १९०३ २ जैन आत्मानन्द समा, भावनगर	..
अणु	= अणुयोगदारनुक्त	१ राय धनपतिचिह्नी बहादुर, कलकत्ता, संवत् १९३६ २ आगमोदय समिति, १९२४ बम्बई,	... पत्र
अनु	= अनुत्तरोववाहप्रदसा	ॐ १ राँचन एसियाटिक सोसाइटी, लंडन, १९०७ २ आगमोदय-समिति, बम्बई, १९२०	... पत्र
अभि	= अभिज्ञानशाकुन्तल	निर्णयज्ञान प्रेस, बम्बई, १९१६	... पृष्ठ
अवि	= अविमारक	त्रिवेन्द्र संस्कृत सिंगेज	..
आउ	= आउरपञ्चकारणपयज्ञो	१ जैन-धर्म-प्रसारक समा, भावनगर, संवत् १९६६ २ शा वालामाई ककलमाई, ग्रहमदावाद, संवत् १९६२	.. गाथा
आक	= १ आवश्यककथा २ आवश्यक-एर ज्यालु गन्	हस्तलिखित डा. ड ल्युमेन्-संपादित, लाहपजिग, १८९७	... पृष्ठ
आम्या	= आम्यानकमणिकोश	प्राकृत ग्रन्थ परिपद्, वाराणसी—५	..
आचा	= आचारंगसूत्र	ॐ १ डां डबल्यु. शुद्धिग्न संपादित, लाहपजिग, १९१० + २ आगमोदय-समिति, बम्बई, १९१६ ३ प्रो रवजोमाई देवराज-संपादित, राजकोट, १९०६	... ध्रुतस्कन्ध, अच्य०
आचानि	= आचारंग-निर्णय	आगमोदय-समिति, बम्बई, १९१६	... गाथा
आचू	= आवश्यकचूणि	हस्तलिखित	... अच्ययन
आत्म	= आत्मसंबोधकुलक	† हस्तलिखित	.. गाथा
आत्महि	= आत्महितोपदेश-कुलक	..	..
आत्मानु	= आत्मानुशान्ति-कुलक	..	..
आनि	= आवश्यकनिर्णय	१ यशोविजय-जैन-ग्रन्थमाला, बनारस । २ हस्तलिखित ।	..

ॐ ऐसी निशानी वाले संस्करणों में अकारादि क्रम ने शब्द-सूची छपी हुई है, इसमें ऐसे संस्करणों के पृष्ठ आदि के अंकों का उल्लेख प्रस्तुत कोष में बहूषा नहीं किया गया है, क्योंकि पाठक उस शब्द-सूची में ही अभिलषित शब्द के स्थान को तुरन्त पा सकते हैं। जहाँ किसी विशेष प्रयोजन से अंक देने की आवश्यकता प्रतीत नो हुई है, वहाँ पर उसी ग्रन्थ की पद्धति के अनुसार अंक दिए गए हैं, जिससे विज्ञानु को अभीष्ट स्थल पाने में विशेष सुविधा हो।

+ इन संस्करणों में ध्रुतस्कन्ध, अच्ययन और उद्देश के अङ्क समान होने पर भी सूत्रों के अङ्क भिन्न-भिन्न हैं। इससे इस कोष में जिस संस्करण से जो शब्द लिया गया है उसी का सूत्राङ्क वहाँ पर दिया गया है। अंक की गिनती उसी उद्देश्य या अच्ययन के प्रथम सूत्र से आरम्भ की गई है।

† अक्षय श्रीधर केशवलातमाई प्रेमचन्द मोदी, बी. ए., एल्. एल्., बी. से प्राप्त।

सकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
आप	= आराधनाप्रकरण	शा बालाभाई ककलभाई, अहमदाबाद, संवत् १९६२	गाथा
आरा	= आराधनामार	मानिकचंद-दिगंबर-जैन-ग्रंथमाला, संवत् १९७३	"
आव	= आवश्यकसूत्र	हस्तलिखित	...
आवटि	= आवश्यक टिप्पण	देवचन्द लालभाई	
आवदी	= आवश्यक दीपिका	विजयदानसूरि ग्रंथमाला	
आवपगा	= आवश्यकसूत्रे पत्रे गाथा	(हरिभद्र टीका)	
आवम	= आवश्यकसूत्र भलयगिरि टीका	हस्तलिखित	...
इदि	= इन्द्रियपराजयघातक	भीमसिंह माणिक, बवई, संवत् १९६८	गाथा
इक	= दि कोस्मोग्राफी देर् इंदेर	* डा. डब्ल्यु किरफेल-कृत, लाइपजिग, १९२०	
उत्त	= उत्तराध्ययनसूत्र	१ राय धनपतिसिंह बहादुर, कलकत्ता, संवत् १९३६	अव्ययन, गाथा
		२ स्व-संपादित, कलकत्ता, १९२३	"
		+ ३ हस्तलिखित	"
उत्त	= उत्तराध्ययन सूत्र	देवचन्द लालभाई	
उत्त का	= "	डॉ. जे कारपेंटिअर-संपादित, १९२१	"
उत्तनि	= उत्तराध्ययननिष्ठुंक्ति	हस्तलिखित	"
उत्तर	= उत्तररामचरित	निणंयत्तागर प्रेस, बम्बई, १९१५	...
उप	= उपदेशपद	हस्तलिखित	गाथा
उप टी	= उपदेशपद-टीका	हस्तलिखित	मूल-गाथा
उपपं	= उपदेशपचाशिका	† "	गाथा
उप पृ	= उपदेशपद	जैन विद्या-प्रचारक वर्ग, पालीताणा	पुष्प
उर	= उपदेशरत्नाकर	देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १९१४	अश, तरंग
उव	= उवएसमाला	* डॉ. एल्. पी. टेसेटोरि-संपादित, १९१३	
उवकु	= उवदेशकुलक	† हस्तलिखित	...
उवर	= उपदेशरहस्य	मनसुखभाई भगुभाई, अहमदाबाद, संवत् १९६७	"
उवा	= उवासगदसाधो	* एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १८९०	...
ऊव	= ऊवमंग	त्रिवेन्द्र संस्कृत-सिरीज	...
ओघ	= ओघनिष्ठुंक्ति	भागमोदय समिति, बम्बई, १९१९	...
ओघ भा	= ओघनिष्ठुंक्ति-भाष्य	"	...
ओप	= ओपपत्रितकसूत्र	* डॉ इ ल्युमेन्-संपादित, लाइपजिग, १८८३	...
कप्प	= कल्पसूत्र	* डॉ. एच्. जेकोवी-संपादित, लाइपजिग, १८७९	...
कप्पू	= कर्पूरमञ्जरी	* हार्वर्ड् ओरिएण्टल् सिरीज, १९०१	...
कम्म १	= कर्मग्रंथ पहला	* आत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक मण्डल, भागरा, १९१८	गाथा
कम्म २	= ", दूसरा	* " "	" "
कम्म ३	= ", तीसरा	* " "	१९१९ "
कम्म ४	= ", चौथा	* " "	१९२३ "

+ सुखबोधा नामक प्राकृत-बहुल टीका से विभूषित यह उत्तराध्ययन सूत्र की हस्त-लिखित प्रति आचार्य श्रीविजय-भेघसूरिजी के भहार से अर्द्धेय श्रोयुत् के प्रे मोदी द्वारा प्राप्त हुई थी, इस प्रति के पत्र १८६ हैं।

† अर्द्धेय श्रोयुत् के प्रे मोदी द्वारा प्राप्त।



संकेत ।	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके श्रेष्ठ दिए गए हैं वह
कम्म ५	= कर्मग्रन्थ पांचवीं	१ नीमसिंह मारोक, बम्बई, संवत् १९६८ २ जैन-धर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, संवत् १९६८	... गाय .. "
कम्म ६	= ,, छठवीं	"	.. "
कम्मप	= कर्मप्रकृति	जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, १९१७	... पत्र
कर	= कर्णवज्रायुषम्	आत्मानन्द-जैन-सभा, भावनगर, १९१६	... पृष्ठ
कण	= कर्णभार	दिवेन्द्र-संस्कृत-निरीज	... "
कपूर	= कपूरचरित (भार)	गायकवाड श्रीरिएण्टल् सिरीज, न. न., १९१८	.. "
कर्म	= कर्मकुलक	† हस्त-लिखित	गाथा
कल्पनाप्य	= कृत्कल्प-नाप्य	आत्मानन्द सभा	
,, गा०	= ,, गाथा		
कल	= (वृहत्) कल्पमूल	डॉ. डबल्यु शुद्धि सपादित, लाइपजिग, १९०५	
कहा	= कहावली	अमुद्रित	
काप्र	= काव्यप्रकाश	वामनाचार्यवृत्त टीका-युक्त, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई	.. पृष्ठ
काल	= कालकाचार्यकथानक	डॉ एच् जेकोबी सपादित, जेड्-डी-एम्-जी, खंड ३४, १८८०	
किरात	= किराताहुनीय (व्यायोग)	गायकवाड श्रीरिएण्टल् सिरीज, न. न., १९१८	पृष्ठ
कुप्र	= कुमारपालप्रतिबोध	गायकवाड श्रीरिएण्टल् सिरीज, १९२०	... "
कुना	= कुमारपालचरित	डबई-संस्कृत सिरीज, १९००	.. "
कुम्मा	= कुम्मापुत्रचरित	स्व-संपादित, कलकत्ता, १९१९	.. पृष्ठ
कुलक	= कुलकसंग्रह	जैन श्रेयन्कर महल, म्हेसाणा, १९१४	.. "
खा	= खामणाकुलक	† हस्तलिखित	गाथा
खेत	= लघुलेखसमाप्त	नीमसिंह मारोक, बंबई, संवत् १९६८	.. "
गदड	= गदडवहो	डबई-संस्कृत-सिरीज, १८८७	.. "
गच्छ	= गच्छाचारपयन्नी	१ हस्तलिखित	.. अधिकार, गाथा
..		२ चटुनाल मोहोलाला कोठारी, अहमदाबाद, संवत् १८८०	.. "
..		३ नेठ जमनानाई भगुनाई अहमदाबाद, १९२४	.. "
गा	= गणधरस्मरण	स्व-संपादित, कलकत्ता, संवत् १९७८	गाथा
गरि	= गरिणविजयपयन्नी	राय वनपतिसिंह बहादुर, कलकत्ता, १८४२	.. "
गा	= गाथासप्तशती	+ १ डॉ ए. वेदर-संपादित, लाइपजिग, १८८१ २ निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९११	.. "
गु	= गुरुनारतन्वय-स्मरण	स्व संपादित-कलकत्ता, संवत् १९७८	.. गाथा
गुण	= गुणानुरागकुलक	अथागल गोवर्धनदास, बम्बई, १९१३	.. "
गुमा	= गुरुवन्दननाप्य	नीमसिंह मारोक, बम्बई संवत् १९६२	... गाथा

† श्रेष्ठ के. प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त ।

+ लाइपजिगवाले संस्करण का नाम "सप्तशतक डेस हान" है और बम्बईवाले का "गाथासप्तशती" । ग्रन्थ एक ही है, परन्तु बम्बईवाले संस्करण में सात शतकों के विभाग में करीब ७०० गाथाएँ छपी हैं और लाइपजिगवाले में सीवे नंबर से ठीक १००० । एक से ७०० तक की गाथाएँ दोनों संस्करणों में एक-सी हैं, परन्तु गाथाओं के क्रम में कहीं कहीं दो चार नवरीं का भागा-पीछा है । ७०० के बाद का और ७०० के नीचे भी जहाँ गाथाक के अनन्तर 'अ' दिया है वह नवर केवल लाइपजिग के ही संस्करण का है ।

संकेत	ग्रंथ का नाम	संस्करण प्रादि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
गुरु	= गुरुप्रदक्षिणाकुलक	श्रवालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १९६२	गाथा
गोय	= गीतमकुलक	भीममिह माणिक, बम्बई, संवत् १९६५	...
चउ	= चउसरणपयश्री	१ जैन-धर्म-प्रसारक-सभा भावनगर, संवत् १९६६ २ शा. बालामाई ककलमाई, अहमदाबाद, संवत् १९६२	.. ..
चउ	= चउपन्नमहापुरिसचरियं	प्राकृत-ग्रंथ-परिपद, वाराणसी—५, १९६१	..
घंड	= प्राकृतलक्षण	* एसियाटिक सोसनायटी, बंगाल, कलकत्ता, १८८०	...
चद	= चदपञ्चति	हस्तलिखित	...
चार	= चारदत्त	त्रिवेन्द्र-संस्कृत-सिरीज	..
चेइय	= चेइयवंदणमहाभास	जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, संवत् १९६२	...
चैत्य	= चैत्यवन्दन भाष्य	भीममिह माणिक, बम्बई, संवत् १९६२	...
ज	= जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति	१ देवचद लालमाई पु० फड, बम्बई, १९१० २ हस्तलिखित	वक्षस्कार ...
जय	= जयतिहुभण-स्तोत्र	जैन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम, प्रथमावृत्ति	...
जिन	= जिनदत्ताख्यान	सिन्धी जैन सिरीज	...
जी	= जीवविचार	आत्मानन्द जैन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल, आगरा, संवत् १९७८	..
जीत	= जीतकल्प	हस्तलिखित	..
जीव	= जीवाजीवामिगमसूत्र	देवचद लालमाई पुस्तकोद्धार फड, बम्बई, १९१९	...
जीवन	= जीवसमासप्रकरण	† हस्तलिखित	...
जीवा	= जीवानुशासनकुलक	श्रवालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १९१२	...
जो	= ज्योतिष्करणडक	हस्तलिखित	...
टि	= + टिप्पण (पाठान्तर)	...	..
टी	= † टीका	...	...
ठा	= ठाणगनुत्त (स्थनागसूत्र)	आगमोदय-समिति, बम्बई, १९१८-१९२०	...
एदि	= एदिसूत्र	१ हस्तलिखित २ आगमोदय समिति, बम्बई, १९२४	... ...
एमि	= एमिकण मरण	स्व-संपादित, कलकत्ता, संवत् १९७८	..
एया	= एयावम्मकहामुत्त	आगमोदय समिति, बम्बई, १९१९	...
तंदु	= तंदुलवेयालियपयश्री	१ हस्तलिखित २ दे० ला० पुस्तकोद्धार फड, बम्बई, १९६२	... ...
ति	= तिजयपहृत्त	जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १९११	..
तित्य	= तित्थुगालियपयन्नो	हस्तलिखित	...
ती	= तीर्थकल्प	हस्तलिखित	...
ति	= त्रिपुरदाह (डिम)	गायकवाड थ्रोरिएटल् सिरीज, न ८, १९१८	..

† अद्वैत श्रीयुक् के० प्रे० मोदी द्वारा प्राप्त ।

+ पाठान्तर वाले संस्करणों के जो पाठान्तर हमें उपादेय मालूम पड़े हैं उन्हें भी इस कोप में स्थान दिया है और प्रमाण के पास 'टि' शब्द जोड़ दिया है जिससे उस शब्द को उसी स्थान के टिप्पण का समन्वय चाहिए ।

‡ जहाँ पर प्रमाण में ग्रंथ-संकेत और स्थान-निर्देश के अन्तर 'टी' शब्द लिखा है वहाँ उस ग्रंथ के उसी स्थान की टीका के प्राकृताश से मतलब है ।

संकेत	ग्रंथ का नाम	संस्करण आदि	जिसके ग्रंथ दिए गए हैं वह
द	= दंडकप्रकरण	१ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मठन, बम्बई १९११ २ भीमसिंह माणिक, बम्बई, १९०८	.. गाथा ...
दस	= दर्शनशुद्धिप्रकरण	हस्तलिखित	.. वचन
दशमगस्त्य दशवैतू	} = दशवैकालिक श्रमस्त्य सिद्धान्त	P. T. S.	...
दस			
दसत्रू	= दशवैकालिकचूलिका	" " "	... चूलिका०
दसनि	= दशवैकालिकनिर्णय	१ भीमसिंह माणिक, बम्बई, १९०० २ देवचन्द्र लालभाई	.. अध्ययन, गाथा
दशवैवृद्ध	= दशवैकालिक वृद्ध विवरण	मुद्रित त्रुण, श्रममदेव केसरीमल	
दसा	= दशात्रुतत्कन्य	हस्तलिखित	.
दीव	= दीवसागरपन्नक्ति	,	...
दूत	= दूतघटोत्कच	त्रिवेन्द्र-संस्कृत-सिरीज	.
दे	= देशीनाममाला	बम्बई-संस्कृत-सिरीज, १८८०	.. पृष्ठ वर्ग, गाथा
देव	= देवेन्द्रस्तवप्रकीर्णक	हस्तलिखित	
देवदिन	= देवद्वय चयानक	"	
देवेन्द्र	= देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरण	जैन श्रात्मानन्द समा, भावनगर, १९२२	...
द्र	= द्रव्यसित्तरी	१ जैन धर्म-प्रसारक-समा, भावनगर, सचत् १९५८ २ शा० वेणुचंद सूरचंद, म्हैसाणा, १९०६	... गाथा .. "
द्रव्य	= द्रव्यसंग्रह	जैन-ग्रंथ-रत्नाकर-कार्यालय, बंबई, १९०६	.. "
द्वय	= श्रममपचायिका	कव्यमाला, सप्तम पुस्तक, बंबई, १८९०	.. "
धम्म	= धर्मरत्नप्रकरण सटीक	१ जैन विद्या-प्रचारक वर्ग, पालीताराणा, १९०५ २ हस्तलिखित	.. मूल-गाथा .. "
धम्मि	= धम्मिलहिदी (वसुदेवहिदी अन्तर्गत)	श्रात्मानन्द समा	..
धम्मो	= धम्मोवएनकृलक	† हस्तलिखित	...
धर्म	= धर्मसंग्रह	जैन-विद्या-प्रचारक-वर्ग, पालीताराणा, १९०५	.. अतिकार
धर्मर	= धर्मरत्नप्रकरण	श्रात्मानन्द समा	
धर्मवि	= धर्मविधिप्रकरण सटीक	जैनसमाई छोटालाल सुवरीया, ग्रहमदावाद, १९२४	.
धर्मस	= धर्मसंग्रहणी	दे० सा० पुस्तकालय फंड, बंबई, १९१६-१८	...
धर्मा	= धर्मानुदय	जैन-श्रात्मानन्द-समा, भावनगर, १९१८	.. गाथा
धात्वा	= प्राकृतधात्वादेश	एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १९२४	.. पृष्ठ
ध्व	= ध्वन्यालोक	निर्णयसागर प्रेस, बंबई	.. पृष्ठ
नदीटिप्प	= नन्दीटिप्पण	P T S	.. "
नलदवरास	= नलदवदतीरास (श्रमिवर्धन),	वेन्डर संपादित	

संकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
नव	= नवतत्त्वप्रकरण	१ आत्मानन्द-जैन-सभा, भावनगर २ आन्य-जैन धर्म-प्रवर्तक-सभा, अहमदावाद, १९०६	.. गाथा .. "
नाट	= † नाटकीयप्राकृतशब्दसूची		.. उद्देश
निचू	= निशीथचूर्ण	हस्तलिखित	... वर्ग, अक्ष्य०
निर	= निरयावलीसूत्र	१ हस्तलिखित २ आगमोदय-समिति, बम्बई, १९२२	.. "
निशा	= निशाविरामकुलक	† हस्तलिखित	... गाथा
निशी	= निशीथसूत्र	हस्तलिखित	... उद्देश
पञ्चम	= पञ्चमचरित्र	जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति	पूर्व, गाथा
पञ्चम	= पञ्चमचरिय	प्राकृत-ग्रन्थ-परिपद्, वाराणसी-५	... "
पञ्च	= पञ्चसग्रह	१ हस्तलिखित २ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १९१९	. द्वार, गाथा .. "
पञ्चभा	= पञ्चकल्पमाष्य	हस्तलिखित	..
पञ्चव	= पञ्चवस्तु	,,	द्वार
पञ्चा	= पञ्चासकप्रकरण	जैन-धर्म-प्रसारक सभा भावनगर, प्रथमावृत्ति	... पचासक
पञ्च	= पञ्चकल्पचूर्ण	हस्तलिखित	...
पञ्चि	= पञ्चनिर्गन्वीप्रकरण	आत्मानन्द-जैन सभा, भावनगर, संवत् १९७४	... गाथा
पञ्चा	= पञ्चरात्र	त्रिवेन्द्र संस्कृत-सिरीज	... षष्ठ
पञ्च	= पञ्चसूत्र	हस्तलिखित	... सूत्र

† सेंट्रल लाइब्रेरी, बड़ोदा में स्थित एक मुखपृष्ठ-हीन पुस्तक ने गृहीत, जिसके पूर्व भाग में क्रमदीश्वर का प्राकृत व्याकरण और उत्तर भागमें 'प्राकृताभिधानम्' शीर्षक से कतिपय ग्रंथों से उद्धृत प्राकृत शब्दों की एक छोटी सी सूची छपी हुई है। इस सूची में उन ग्रंथों के जो सक्षिप्त नाम और पृष्ठाङ्क दिए गये हैं वे ही नाम तथा पृष्ठाङ्क ज्यों के त्यों प्रस्तुत कोप में भी यथास्थान 'नाट' के बाद रखे गये हैं। उक्त पुस्तक में उन ग्रंथों के सक्षिप्त नामों तथा संस्करणों का विवरण इस तरह है,—

मालती	for	मालतीमाधवम्	Calcutta Edition of 1830
चैत	"	चैतन्यचन्द्रोदयम्	" 1854
विक्र	"	विक्रमोर्वशी	" 1830
साहित्य	"	साहित्यदर्पण	Edition of Asiatic Society
उत्तर	"	उत्तररामचरित	Calcutta Edition of 1831
रत्ना	"	रत्नावली	" 1832
मृच्छ	"	मृच्छकटिक	" 1832
प्राप्त	"	प्राकृतप्रकाश	Mr Cowell's Edition of 1854
शकु	"	शकुन्तला	Calcutta Edition of 1840
मालवि	"	मालविकाग्निमित्र	Tulberg's Edition of 1850
वेशि	"	वेशिसंहार	Muktaram's Edition of 1855
पाथ	"	सक्षिप्तसारस्य प्राकृताव्याय.	
महावी	"	महावीरचरितम्	Trithen's Edition of 1848
पिग	"	पिगल	Ms

† अक्षय के. प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त ।

संकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्कारग आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
पक्व	= पक्विसूत्र	भीमसिंह माणिक, बम्बई, संवत् १९६२	..
पञ्च	= महापञ्चक्वाराणपयत्नो	शा. बालामाई ककलमाई, अहमदाबाद, संवत् १९६२	गाथा
पडि	= पञ्चप्रतिभ्रमणसूत्र	१ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई १९११ २ आत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक मंडल, आगरा, १९२१	..
परण	= परणवणामुक्त	राय बनपतिसिंह बहादुर, बनारस, संवत् १९४०	.. पद
परह	= प्रश्नव्याकरणसूत्र	आमोदय समिति, बम्बई, १९१६	.. श्रुतस्वन्ध, द्वार
पना	= पञ्चक्वाराणामप्य	भीमसिंह माणिक, बम्बई, संवत् १९६२	.. गाथा
पव	= प्रवचनसागेद्वार	१ .. संवत् १९३४ २ दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १९२२-२५	.. + द्वार ..
पम	= प्रज्ञापनोपाङ्ग-श्रुतीयपदसंग्रहणी	आत्मानन्द-जैन समा, भावनगर, संवत् १९७४	.. गाथा
पाय	= पाइअलचट्टीनाममाला	* श्री वी एण्ड कंपनी, भावनगर, संवत् १९७३	..
पाचं	= पायंपराक्रम	गायकवाड थोरिएण्टल सिरीज, नं ४, १९१७	.. श्रुत .. पंरा
पि	= ग्रामेटिक देरू प्राकृत स्त्राखन्	डा. आर्. पियेन् कृत, १९००	..
पिंग	= प्राकृतपिंगल	* एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १९०२	..
पिड	= पिडनिपुंक्ति	१ हस्तलिखित २ दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १९२२	.. गाथा ..
पिडना	= पिडनिपुंक्तिभाष्य	..	..
पुष्क	= पुष्कमालाप्रकरण	जैन-श्रौयस्कर-मंडल, म्हेसाणा, १९११	..
प्रति	= प्रतिमानाटक	त्रिवेन्द्र-संस्कृत-सिरीज	.. श्रुत
प्रवो	= प्रवोचचन्द्रोदय	निएंयसागर प्रेस, बम्बई, १९१०	..
प्रवी	= प्रतिज्ञायौगन्धरायण	त्रिवेन्द्र-संस्कृत सिरीज	..
प्रवि	= प्रवचना-विवान-श्रुलक	† हस्तलिखित	.. गाथा
प्राकृ	= प्राकृतसर्वस्व (मार्करुडेयकृत)	विन्ना गपटम्, विशाखापट्टणम्	.. श्रुत
प्राप	= इन्द्रकक्षान् दु दि प्राकृत	* पंजाब युनिवर्सिटी, लाहौर, १९१७	..
प्राप्र	= प्राकृतप्रकाश	* १ डा. कावेल-सपादित, लंडन, १८८८ * २ बगीय-साहित्य-परिपद्, कलकत्ता, १९१८	..
प्रामा	= प्राकृतमार्गोपदेशिका	* शाह हफेचन्द नूगमाई, बनारस, १९११	..
प्राह	= प्राकृतशब्दरूपावली	* सेठ मनमोहनभाई भुमाई, अहमदाबाद, संवत् १९६८	..
प्रानू	= प्राकृतसूक्त-रत्नमाला	जैन विविध-साहित्य-शास्त्र-माला, बनारस, १९१६	.. गाथा
वाल	= वालचरित	त्रिवेन्द्र-संस्कृत-सिरीज	.. श्रुत
वृह	= वृहत्स्वरूपभाष्य	हस्तलिखित	.. उद्देश्य
भग	= भगवतीसूत्र	* १ जिनागमप्रकाश समा, बम्बई, संवत् १९७४ २ हस्तलिखित	.. शतक, उद्देश्य
भत	= भतपरिणामपयत्नो	३ आमोदय समिति, बम्बई, १९१८-१९१९-१९२१ १ जैन-धर्म-प्रसारक-समा, भावनगर, संवत् १९६६ २ शा. बालामाई ककलमाई, अहमदाबाद, संवत् १९६२	.. गाथा
भववृकथा	= भवभावनावृत्तिकथा	देवचन्द लालभाई	..

+ द्वार—प्रारम्भ के पूर्व के प्रस्ताव के लिए 'पव' के बाद केवल गाथा के अंक दिए गए हैं।

† अर्धेय श्रीपुत्र के प्रे मोदी द्वारा प्राप्त।

संज्ञित	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
भवि	= भविसत्तकहा	* १ डा एच् जेकोवी-सपादित १९१८ * २ गायकवाड थोरिएण्टल सिरीज, १९२३	.
भाव	= भावकुलक	अदालाल गोवर्धनदान, बम्बई १९१३	गाथा
भास	= भापारहस्य	सेठ मनसुखभाई भगुभाई, अहमदाबाद	"
मगल	= मगलकुलक	† हस्तलिखित	"
मव्य	= मध्यमव्यायोग	त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरीज	*** पृष्ठ
मन	= मनोनिग्रहभावना	† हस्तलिखित	गाथा
महा	= आजसगेव्यालते एरस्यालुंगन् इन् महाराष्ट्री	❧ डॉ. एन. जेकोवी-सपादित, लाइपजिग, १८८६	
महानि	= महानिशीथमूत्र	हस्तलिखित	अव्ययन
मा	= मालविकाग्निमित्र	निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १९१५	पृष्ठ
माल	= मालतीभाव	" "	"
मुण्णि	= मुनिमुव्रतस्वामिचरित	हस्तलिखित	गाथा
मुद्रा	= मुद्राराक्षस	बम्बई-संस्कृत-सिरीज, १९१५	पृष्ठ
मृच्छ	= मृच्छकटिक	१ निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९१६ २ बम्बई संस्कृत सिरीज, १८९६	"
मै	= मैथिलीकल्याण	मारिकचन्द-दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, १९७३	.. "
मोह	= मोहराजपराजय	गायकवाड थोरिएण्टल सिरीज, नं. ६, १९१८	"
यति	= यतिशिक्षापंचाशिका	† हस्तलिखित	.. गाथा
रभा	= रभामंजरी	* निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १८८९	"
रत्न	= रत्नत्रयकुलक	† हस्तलिखित	गाथा
रयण	= रयणसेहरनिवकहा	स्व-संपादित, बनारस, १९१८	पृष्ठ
राज	= अभिधानराजेन्द्र	* जैन-प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम	
राय	= रायपसेणीसुत	१ हस्तलिखित २ भागमोदय-समिति बम्बई, १९२५	. पत्र
रुक्मि	= रुक्मिणी-हरण ( ईहामृग )	गायकवाड थोरिएण्टल सिरीज, नं. ८, १९१८	पृष्ठ
लघु	= लघुसग्रहणी	भोमसिंह मारोक, बम्बई, १९०८	गाथा
लघुप्र	= लघुप्रजितशान्ति स्मरण	स्व-संपादित, कलकत्ता, सवत् १९७८	.
लोक	= लोकप्रकाश	देवचन्द लालभाई	"
वज्रा	= वज्रालम्ब	एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता	पृष्ठ
वव	= व्यवहारसूत्र, सभाष्य	१ हस्तलिखित २ मुनि मारोक संपादित, भावनगर, १९२६	उद्देश्य "
वसु	= वसुदेवहिंडी	१ हस्तलिखित २ आत्मानन्द सभा	
वा	= वाग्भटकाव्यानुशासन	निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९१५	पृष्ठ
वाप्र	= वाग्भटालकार	" १९१६	"
वि	= विषयत्यागोपदेशकुलक	† हस्तलिखित	गाथा

संकेत	रन्ध्र का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह	
विक्र	=	विक्रमोद्वंशीय	निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९१४	पृष्ठ
विक्र	=	विक्रान्तकौरव	मारिणक्षत्रन्द-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थ-माला, सवत् १९७२	"
विचार	=	विचारसारप्रकरण	आगमोदय-समिति, बम्बई, १९२३	गाथा
विपा	=	विपाकश्रुत	स्व-संपादित कलकत्ता, सवत् १९७६	श्रुतग्रन्थ, ग्रन्थ०
विवे	=	विवेकमजरीप्रकरण	स्व-संपादित, बनारस, सवत् १९७५-७६	गाथा
विसे	=	विशेषावश्यकभाष्य	स्व-संपादित बनारस, वीर-सवत् २४२१	"
वृष	=	वृषभानुजा	निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९६५	पृष्ठ
वेणी	=	वेणीसहार	निर्णयसागर प्रेस बम्बई, १९१४	"
वे	=	वेदांगगतक	विट्टलभाई जीवामाई पटेल, ग्रहमदावाद, १९२०	गाथा
श्रा	=	श्राद्धप्रतिष्ठाणमूत्रवृत्ति	दो.ला० पुस्तकालय फंड, बम्बई, १९१६	मूलागाथा
श्रावक	=	श्रावकप्रज्ञप्ति	१ श्रीयुक्त केशवनाथ प्रेमचन्द संपादित, १९०५ २ जैन धर्म शास्त्रा	गाथा
श्रु	=	श्रुतान्वाद	† हस्तलिखित	"
पद्	=	पद्मभाष्यचन्द्रिका	* बम्बई संस्कृत एन्ड प्राकृत सिरीज, १९१६	"
स	=	समराक्षकहा	एमियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १९०८-२३	पृष्ठ
स	=	सवोधसत्तरी	विट्टलभाई जीवामाई पटेल, ग्रहमदावाद, १९२०	गाथा
सक्षि	=	सक्षिप्तसार	१ हस्तलिखित	"
			२ सस्कृत प्रेस डिपोजिटरी, कलकत्ता, १९८६	पृष्ठ
संग	=	बृहत्सग्रहणी	१ भीमसिंह मारिक, बम्बई, सवत् १९६८ २ आत्मानन्द जैन समा, भावनगर, सवत् १९७३	गाथा
संघ	=	संघाचारभाष्य	हस्तलिखित	प्रस्ताव
संच	=	शान्तिनाथचरित्र (देवचन्द्रसूरि-कृत)	"	"
सति	=	सतिहरन्वोत्र	१ जैन-ज्ञान प्रसारक-महल, बम्बई, १९११ २ आत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल, आगरा, १९२१	गाथा
संथा	=	संथारगपयशो	१ हस्तलिखित २ जैन-धर्म-प्रचारक-समा, भावनगर, सवत् १९६६	"
सवोध	=	सवोधप्रकरण	जैन-ग्रन्थ-प्रकाशक-समा, ग्रहमदावाद, १९१६	पत्र
सवे	=	सवेगबूनिकाकुलक	† हस्तलिखित	गाथा
सवेग	=	सवेगमजरी	"	"
सद्वि	=	सद्विषयपरकरण	१ स्व-संपादित, बनारस, १९१७ २ सत्यविजय-जैन-ग्रन्थमाला, नं. ६, ग्रहमदावाद, १९२५	"
सण	=	सनत्कुमारचरित	* डॉ. एच. जेकोबी-संपादित, १९२१	"
सत्त	=	सप्तदेशसप्ततिका	जैन धर्म-प्रचारक-समा, भावनगर, सवत् १९७६	गाथा
सम	=	समवायागपूत्र	आगमोदय समिति, बम्बई, १९१८	पृष्ठ
समु	=	समुद्रमन्थन (समवकार)	गायकवाड थोरिएन्टल सिरीज, नं. ८, १९१८	"
सम्म	=	सम्मतिसूत्र	जैन-धर्म प्रसारक-समा, भावनगर, सवत् १९६५	गाथा

संकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
सम्मत	= सम्यक्त्वसप्तति सटीक	दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १९१६	पत्र
सम्य	= सम्यक्त्वस्वरूप पञ्चोसो	शंवालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १९१३	• गाथा
सम्यक्त्रयो	= सम्यक्त्रयोत्पादविधिकुलक	† हस्तलिखित	• ”
सा	= सामान्यगुणोपदेशकुलक	”	• ”
सार्धं	= गणवरसार्धशतकप्रकरण	जौहरी चुन्नीलाल पन्नालाल, बम्बई, १९१६	• ”
सिक्खा	= शिखाशतक	† हस्तलिखित	• ”
सिग्ध	= सिग्धमवहरउ-स्मरण	स्व संपादित, फलकता, सवत् १९७८	• ”
सिरि	= सिरिसिरिवालकहा	दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १९२३	• ”
सुख	= सुखबोधा टीका (उत्तराव्ययनस्य) ‡ हस्तलिखित		• अव्ययन, गाथा
सुज्ज	= सूत्रप्रज्ञप्ति	आगमोदय-समिति, बम्बई, १९१९	•• पाठुड
सुपा	= सुपासनाहचरिभ	स्व-संपादित बनारस, १९१८-१९	• पृष्ठ
सुर	= सुरसुदरीचरित्र	जैन-विविध-साहित्य-शास्त्र-माला, बनारस, १९१६	परिच्छेद, गाथा
सूत्र	= सूत्रगडागमुत्त	+ १ भीमसिंह माणिक, बंबई, १९३६	• श्रुतस्कंध, अव्य०
		२ आगमोदय समिति, बंबई, सवत् १९१७	• ”
सूत्रानि	= सूत्रकृताङ्गनियुक्ति	१ हस्तलिखित	• श्रुतस्कंध
		२ आगमोदय-समिति, बंबई, सवत् १९७३	• गाथा
		३ भीमसिंह माणिक ” ” १९३६	•• ”
सूक्त	= सूक्तमुक्तावली	दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, बंबई, १९२२	• पत्र
सूत्रधू	= सूत्रकृतागचूणि	P 'I' S	
से	= सेतुवध	निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १८९५	••• आश्रासक, पत्र
स्वप्न	= स्वप्नवासवदत्त	शिवेन्द्र संस्कृत-सिरीज	• पृष्ठ
हम्मीर	= हम्मीरमदमदन	गायकवाड ओरिएण्टल सिरीज, न. १०, १९२०	• ”
हास्य	= हास्यचूडामणि (प्रहसन)	”	• ”
हि	= हितोपदेशकुलक	† हस्तलिखित	• गाथा
हित्	= हितोपदेशमारकुलक	”	• ”
हे	= हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण	* १ डॉ आर् पिरोल्-संपादित, १८७७	• पद, सूत्र
		२ बंबई-संस्कृत-सिरीज, १९००	• ”
हेका	= हेमचन्द्र-काव्यानुशासन	निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १९०१	• पृष्ठ

† श्रद्धेय श्रीपुत के प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त ।

‡ देखो 'उत्त' के नीचे की टिप्पणी ।

+ सूत्र के अंक इन दोनों में भिन्न भिन्न हैं, प्रस्तुत कोष में सूत्रांक केवल भी मा के संस्करण के दिए गये हैं ।





# प्रथम संस्करण में लेखक का निवेदन

कोई भी भाषा के ज्ञान के लिए उस भाषा का व्याकरण और कोष प्रचान साधन है। प्राकृत भाषा के प्राचीन व्याकरण अनेक हैं, जिनमें चड का प्राकृतलक्ष्मण वररुचि का प्राकृतप्रकाश, हेमाचार्य का सिद्धहेम (अष्टम अध्याय), मार्कण्डेय का प्राकृतसर्वस्व और लक्ष्मीधर की पड्भाषाचन्द्रिका मुख्य हैं। और अर्वाचीन प्राकृत व्याकरणों की सख्या अल्प होने पर भी उनमें जर्मनी के सुप्रसिद्ध प्राकृत-विद्वान् डॉ. पिशाल् का प्राकृतव्याकरण नवश्रेष्ठ है जो अतिविस्तृत और तुलनात्मक है। परन्तु प्राकृत-कोष के विषय में यह बात नहीं है। प्राकृत के प्राचीन कोषों में अद्यापि पर्यन्त केवल दो ही कोष उपलब्ध हुए हैं—परिडित वनपाःल-कृत पाण्डुअलच्छीनाममाला और हेमाचार्य-प्रणीत देशीनाममाला। इनमें पहला अतिसंक्षिप्त—दो बी में भी कम पन्नों में ही समाप्त और दूसरा केवल देश्य शब्दों का कोष है। इनके सिवा अन्य कोई भी प्राकृत का कोष न होनेसे प्राकृत के हरएक अभ्यासी को अपने अभ्यास में बहुत असुविधा होती थी, खुद मुझे भी अपने प्राकृत-ग्रन्थों के अनुशीलन-काल में इन अभाव का कटु अनुभव हुआ करता था। इमसे आज से करीब पनरह साल पहले पूज्यपाद, प्रात-स्मरणीय, गुरुवर्य शास्त्र-विशारद जैनाचार्य श्री १८०८ श्री विजयवर्मसूरीश्वरजी महाराज की प्रेरणा ने प्राकृत का एक उपयुक्त कोष बनाने का मैंने विचार किया था।

इसी अरसे में श्री राजेन्द्र सूरिजी का अभिधानराजेन्द्र नामक कोष का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ और अभी दो वर्ष हुए इसका अन्तिम भाग भी बाहर हो गया है। बड़ी बड़ी ज्ञात जित्दों में यह कोष समाप्त हुआ है। इस सपूर्ण कोष का मूल्य २६० रुपये हैं जो परिश्रम और ग्रन्थ-परिमाण में अधिक नहीं कहे जा सकते। यद्यपि इस कोष की विस्तृत आलोचना करने की न तो यहाँ जगह है, न आवश्यकता ही, तथापि यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि इसकी तय्यारी में इसके कर्ता और उसके सहकारियों को सचमुच घोर परिश्रम करना पडा है और प्रकाशन में जैन श्वेताम्बर संघ को भारी धन-व्यय। परन्तु वेद के साथ कहना पडता है कि इसमें कर्ता की सफलता की अपेक्षा निष्फलता ही अधिक मिली है और प्रकाशक के धनका अपव्यय ही विशेष हुआ है। सफलता न मिलने का कारण भी स्पष्ट है। इस ग्रन्थ को थोडे गौर से देखने पर यह सहज ही मालूम होता है कि इसके कर्ता को न तो प्राकृत भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था और न प्राकृत शब्द-कोष के निर्माण की उतनी प्रवण इच्छा, जितनी जैन दर्शन-शास्त्र और तर्क-शास्त्र के विषय में अपने पाण्डित्यप्रख्यापन की धून। इसी धून ने अपने परिश्रम को योग्य दिशा में ले जानेवालो विवेक-बुद्धि का भी हास कर दिया है। यही कारण है कि इस कोष का निर्माण, केवल पचहत्तर से भी कम प्राकृत जैन पुस्तकों के ही, जिनमें अर्धमागधी के दर्शनविषयक ग्रंथों की बहुलता है, आधार पर किया गया है और प्राकृत की ही इतर मुख्य शाखाओं के तथा विभिन्न विषयों के अनेक जैन तथा जैनेतर ग्रन्थों में एक का भी उपयोग नहीं किया गया है। इमसे यह कोष व्यापक न होकर प्राकृत भाषा का एकदेशीय कोष हुआ है। इसके सिवा प्राकृत तथा संस्कृत ग्रन्थों के विस्तृत अर्थों को और कहीं-कहीं तो छोटे-बड़े सपूर्ण ग्रन्थों की अवतरण के रूप में उद्धृत करने के कारण पृष्ठ-सख्या में बहुत बढा होने पर भी शब्द-सख्या में ऊन ही नहीं, बल्कि आधार-भूत ग्रंथों में आए हुए कई उपयुक्त शब्दों को छोड देने से और विशेषार्थ-हीन अतिदीर्घ सामासिक शब्दों की भरती में वास्तविक शब्द-सख्या में यह कोष अतिन्यून भी है। इतना ही नहीं, इम कोष में आदर्श पुस्तकों की, असावधानी की और प्रेस की तो असंख्य अशुद्धियाँ हैं ही, प्राकृत भाषा के अज्ञान से सवन्ध रखनेवाली भूलों की भी कमी नहीं है। और सबसे बड़कर दोष इस कोष में यह है कि वाचस्पत्य, अनेकान्तजयपताका, अष्टक, रत्नाकरावतारिका आदि केवल संस्कृत के और जैन इतिहास जैसे

१ जैसे 'वेद्य' शब्द की व्याख्या में प्रतिमाशतक नामक संस्कृत ग्रन्थ को आदि से लेकर अन्त तक उद्धृत किया गया है। इस ग्रंथ की श्लोक-सख्या करीब पाँच हजार है।

२. अक्ष = अक्षं आदि।

३ जैसे अइ-तिव्व-रोस, अइ-दुक्ख-धम्म, अइ-तिव्व-कम्म-विगम, अकुसल-जोग-एणरोह, आचयते(?)उर-पर-घर-प्पवेस, अजिम्म(?)-कंत-एयणा, अजस सय-विषप्पमाण-हियय, अजहणुको(?)स-पएसिय आदि। इन शब्दों का इनके अवयवों की अपेक्षा कुछ भी विशेष अर्थ नहीं है।



दूसरी मुख्य कठिनाई ग्रंथों के बारे में थी। मेरी आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि इस महान् ग्रंथ की तय्यारी के लिए पुस्तकादि आवश्यक साधनों के और सहायक मनुष्यों के वेतन-खर्च के अतिरिक्त प्रकाशन का भार भी वहन कर सकूँ। और पुस्तक में किसी से आर्थिक सहायता लेना मैं पसन्द नहीं करता था। इससे इन कठिनाई को दूर करने के लिए अग्रिम ग्राहक बनाने की योजना की गई, जिसमें उन अग्रिम ग्राहकों को हर पचीस रुपये में इस संपूर्ण ग्रंथ की एक कापी देने की व्यवस्था थी। इससे मेरी उक्त कठिनाई सम्पूर्ण तो नहीं, किन्तु बहुत-बहुत कम हो गई। इस योजना को इतने दूर तक सफल बनाने का अधिक श्रेय कलकत्ता के जैन श्वेताम्बर-श्रीसघ के अग्रगण्य नेता श्रीमान् सेठ नरोत्तमभाई जेठाभाई को है, जिन्होंने शुरू से ही इसकी सरक्षकता का भार अपने पर लेते हुए मुझे हर तरह से इस कार्य में सहायता की है, जिसके लिए मैं उनका चिर-कृतज्ञ हूँ। इसी तरह अहमदाबाद निवासी श्रद्धेय श्रीयुक् केशवलालभाई प्रेमचन्द्र मोदी वी. ए., एल्एल् वी का भी मैं बहुत ही उपकृत हूँ कि जिन्होंने कई मुद्रित पुस्तकों में दी हुई प्राकृत शब्द सूचियों पर नए एकत्रित किया हुआ एक बड़ा शब्द-संग्रह मुझे दिया था, इतना ही नहीं, बल्कि समय समय पर प्राकृत की अनेक हस्त-लिखित तथा मुद्रित पुस्तकों का जोगाह कर दिया था और उक्त योजना में ग्राहक-संख्या बढ़ा देने का हार्दिक प्रयत्न किया था। प्रातः स्मरणीय, पूज्यपाद, गुरुवर्य मुनिराज श्रीअमीचिजयजी महाराज, पूज्य जैनाचार्य श्रीविजयमोहन सूरिजी, ज. पु. भट्टारक श्रीजैनचारित्रसूरिजी तथा स्वतन्त्र-सम्पादक विद्वद्ग्रंथी श्रीयुक् अम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी का भी मैं हृदय से उपकार मानता हूँ कि जिनकी प्रेरणा ने अग्रिम ग्राहकों की वृद्धि द्वारा मुझे इस कार्य में सहायता मिली है। उन महानुभावों को, जिनके शुभ नाम इसी ग्रंथ में अग्र्यत्र दी हुई अग्रिम-ग्राहक-सूची में प्रकाशित किए गए हैं, अनेकानेक धन्यवाद हैं कि जिन्होंने यथाशक्ति अल्पाधिक सख्या में इस पुस्तक की काँपियाँ खरीद कर मेरा यह कार्य सरल कर दिया है। यहाँ पर मेरे मित्र श्रीयुक् सेठ गिरवरलाल त्रिक्मलाल और श्रीमान् बाबू डालचन्दजी सिंघी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन दोनों महाशयों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार यथेष्ट सख्या में इस कोष की काँपियाँ खरीदने के अतिरिक्त मुझे इस कार्य के लिये समय समय पर बिना सूद ऋण देने की भी कृपा की थी। यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि यदि उक्त सब महानुभावों की यह सहायता मुझे प्राप्त न हुई होती तो इस कोष का प्रकाशन मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव था।

यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना उचित जान पड़ता है कि आज से करीब दस वर्ष पहले मेरे सहाय्यापक श्रद्धेय प्रोफेसर मुरलीधर बनर्जी एम्. ए. महाशय ने और मैंने मिलकर एक प्रस्ताव विशिष्ट पद्धति का प्राकृत इंग्लिश कोष तैयार करने के लिए कलकत्ता-विश्वविद्यालय में उपस्थित किया था, परन्तु उस समय वह अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके कई वर्ष बाद जब मेरे इस प्राकृत-हिन्दी कोष का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ तब उसे देखकर कलकत्ता-विश्वविद्यालय के कर्णधार स्वर्गीय आनरेबल जस्टिस आशुतोष मुकर्जी इतने सतुष्ट हुए कि उन्होंने तुरत ही विश्वविद्यालय की तरफ से हम दोनों के तत्त्वावधान में इसी तरह के प्रमाण-युक्त एक प्राकृत इंग्लिश कोष तैयार और प्रकाशित करने का न केवल प्रस्ताव ही पास करवाया, बल्कि उसको कार्य-रूप में परिणत करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी करायी है। इसके लिए उनको जितने धन्यवाद दिये जायँ, कम हैं। यहाँ पर मैं कलकत्ता-विश्वविद्यालय की भी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता कि जिसके द्वारा मुझे इस कार्य में समय, पुस्तक आदि की अनेक सुविधाएँ मिली हैं, जिससे यह कार्य अपेक्षा-कृत शीघ्रता से पूर्ण हो सका है। इस कोष के उपोद्घात से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ऐतिहासिक जटिल प्रश्नों को सुलझाने में श्रद्धेय प्रोफेसर मुरलीधर बनर्जी एम्. ए. ने अपने बीमारी समय का बिना संकोच भोग देकर मुझे जो सहायता की है उसके लिए मैं उनका अन्त-करण से श्रामार मानता हूँ।

इस कोष के मुद्रण-कार्य के आरम्भ से लेकर प्रायः शेष होने तक, समय समय पर जैसे जैसे जो अतिरिक्त हस्त-लिखित और मुद्रित पुस्तकें या संस्करण मुझे प्राप्त होते जाते थे वैसे वैसे उनका भी यथेष्ट उपयोग इस कोष में किया जाता था। यही कारण है कि तब तक के अमुद्रित भाग के शब्द उनके रेफरेंसों के साथ प्रस्तुत कोष में ही यथास्थान शामिल कर दिए जाते थे और मुद्रित अथवा शब्दों का एक अलग संग्रह तय्यार किया जाता था जो परिशिष्ट के रूप में इसी ग्रंथ में अग्र्यत्र प्रकाशित किया जाता है। ऐसा करते हुए तृतीय भाग के छपने तक चिन अतिरिक्त पुस्तकों का उपयोग किया गया था उनकी एक अलग सूची भी तृतीय भाग में दी गई थी। उनके बाद के अतिरिक्त पुस्तकों की अलग सूची इसमें न देकर प्रथम की दोनों (द्वितीय और तृतीय भाग में प्रकाशित) सूचियों की जो एक साधारण सूची यहाँ दी जाती है उसीमें उन पुस्तकों का भी वर्णानुक्रम से यथास्थान समावेश किया गया है जिसमें पाठकों को अलग अलग रेफरेंस-सूचियाँ देखने की तकलीफ न हो।

उक्त परिशिष्ट में केवल उन्हीं शब्दों को स्थान दिया गया है जो पूर्व-संग्रह में न आने के कारण एकदम नये हैं या आने पर भी लिग या अर्थ में पूर्वागत शब्द की अपेक्षा विशेषता रखते हैं। केवल रेफरेंस की विशेषता को लेकर किसी शब्द की परिशिष्ट में पुनरावृत्ति नहीं की गई है।

१. 'अग्रिम ग्राहक सूची' का अर्थ द्वितीय संस्करण में नहीं छापा गया है—संपादक।

२. 'परिशिष्ट' का संपूर्ण अर्थ इस द्वितीय संस्करण में यथास्थान समावेश कर दिया गया है—संपादक।

यद्यपि मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है तथापि वही एकमात्र भारतवर्ष की सर्वाधिक व्यापक और दृढनिष्ठ राष्ट्र-भाषा के योग्य होने के कारण यहाँ अर्थ के लिए विशेष उपयुक्त समझी गई है।

अन्त में, धार्य से लेकर अपभ्रंश तक की प्राकृत भाषाओं के विविध-परिपक्व जैन एवं जैनेतर प्राचीन ग्रंथों के (जिनकी मूल संख्या टाई सी से भी ज्यादा है) अतिविशाल शब्द-राशि से, संस्कृत प्रतिशब्दों से, हिन्दी अर्थों से, सभी आवश्यक अवतरणों में श्रीर संपूर्ण प्रमाणों से परिपूर्ण इस बृहत् प्राकृत-कोष में, अष्टौ सावधानता रखते पर भी, जो कुछ मनुष्य-स्वभाव-भुलभ गृह्यिता या भूलें हुई हों उनको सुधारने के लिए विद्वानों से नम्र प्रार्थना करता हुआ यह आशा रखता हूँ कि वे ऐसी भूतों के विषय में मुझे सतर्क करेंगे ताकि द्वितीयावृत्ति में तदनुसार संशोधन का कार्य सरल हो सके। जो विद्वान् मेरे त्रम प्रमादों की प्रामाणिक पद्धति में सूचना देते, मैं उनका चिर-दृढ आभार रखूँगा।

यदि मेरी इस कृति से, प्राकृत-साहित्य के अन्वेष में थोड़ी भी नहायता पहुँचेगी तो मैं अपने इस शोध-जाल-व्यापी परिश्रम को सफल समझूँगा।

कश्मला  
सा० २०-१-२८ }

हरमोचिन्द दास टि. सेठ

# प्रथम संस्करण का उपोद्घात

जो भाषा अतिप्राचीन काल में इस देश के आर्य लोगों की कथ्य भाषा—बोलचाल की भाषा—थी, जिस भाषा में भगवान् महावीर और बुद्धदेव ने अपने पवित्र सिद्धान्तों का उपदेश दिया था, जिस भाषा को जैन और बौद्ध विद्वानों ने विविध-विषयक विपुल साहित्य की रचना कर अपनाई है, जिस भाषा में श्रेष्ठ काव्य-निर्माण द्वारा प्रवरसेन, हाल आदि प्राकृत किते कहते हैं? महाकवियों ने अपनी अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया है, जिस भाषा के मौलिक साहित्य के आधार पर संस्कृत के अनेक उत्तम ग्रन्थों की रचना हुई है, संस्कृत के नाटक ग्रन्थों में संस्कृत-भिन्न जिस भाषा का प्रयोग दृष्टिगोचर होना है, जिस भाषा से भारतवर्ष की वर्तमान समस्त आर्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है और जो भाषाएँ भारत के अनेक प्रदेशों में आजकल भी बोली जाती हैं, इन सब भाषाओं का साधारण नाम है प्राकृत, क्योंकि ये सब भाषाएँ एरुमात्र प्राकृत के ही विभिन्न रूपान्तर हैं जो समय और स्थान की भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई हैं। इसीसे इन भाषाओं के व्यक्ति-वाचक नामों के आगे 'प्राकृत' शब्द का प्रयोग आज तक किया जाता है, जैसे प्राथमिक प्राकृत, आर्य या अर्धमागधी प्राकृत, पाली प्राकृत, पैशाची प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अपभ्रंश प्राकृत, हिन्दी प्राकृत, बंगला प्राकृत आदि।

## भारतवर्ष की अर्वाचीन और प्राचीन भाषाएँ और उनका परस्पर सम्बन्ध

भाषान्तत्त्व के अनुसार भारतवर्ष की आधुनिक कथ्य भाषाएँ इन पाँच भागों में विभक्त की जा सकती हैं—(१) आर्य (Aryan), (२) द्राविड़ (Dravidian), (३) मुण्डा (Munda), (४) मन्-ख्मेर (Mon-khmer) और (५) तिब्बत-चीना (Tibeto-Chinese).

भारत की वर्तमान भाषाओं में मराठी, बंगला, ओडिया, बिहारी, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी और काश्मीरी भाषा आर्य भाषा से उत्पन्न हुई हैं। पारसी तथा अफ़्ग़ेजी, जर्मनी आदि अनेक आधुनिक युरोपीय भाषाओं की उत्पत्ति भी इसी आर्य भाषा से है। भाषा-गत सादृश्य को देखकर भाषा-तत्त्व ज्ञाताओं का यह अनुमान है कि इस समय विच्छिन्न और बहु-दूरवर्ती भारतीय आर्य-भाषा-भाषा समस्त जातियाँ और उक्त युरोपीय भाषा-भाषी सकल जातियाँ एक ही आर्य-वंश से उत्पन्न हुई हैं।

तेलुगु, तामिल और मलयालम प्रभृति भाषाएँ द्राविड़ भाषा के अन्तर्गत हैं, कोल तथा सॉथाली भाषा मुण्डा भाषा के अन्तर्भूत हैं, खासी भाषा मन्ख्मेर भाषा का और भोटानी तथा नागा भाषा तिब्बत-चीना भाषा का निदर्शन है। इन समस्त भाषाओं की उत्पत्ति किसी आर्य भाषा से सम्बन्ध नहीं रखती, अतएव ये सभी अनार्य भाषाएँ हैं। यद्यपि ये अनार्य भाषाएँ भारत के ही दक्षिण, उत्तर और पूर्व भाग में बोली जाती हैं तथापि अफ़्ग़ेजी आदि सुदूरवर्ती भाषाओं के साथ हिन्दी आदि आर्य भाषाओं का जो वंश-गत ऐक्य उपलब्ध होता है, इन अनार्य भाषाओं के साथ वह सम्बन्ध नहीं देखा जाता है।

ये सब कथ्य भाषाएँ आजकल जिस रूप में प्रचलित हैं, पूर्वकाल में उसी रूप में नहीं थीं, क्योंकि कोई भी कथ्य भाषा कभी एक रूप में नहीं रहती। अन्य वस्तुओं की तरह इसका रूप भी सर्वदा बदलना ही रहता है—देश, काल और व्यक्ति-गत उच्चारण के भेद से भाषा का परिवर्तन अनिवार्य होता है। यद्यपि यह परिवर्तन जो लोग भाषा का व्यवहार करते हैं उनके द्वारा ही होता है तथापि उस समय वह लक्ष्य में नहीं आता। पूर्वकाल की भाषा के सरक्षित आदर्श के साथ तुलना करने पर वाद में ही वह जाना जाता है। प्राचीन काल की जिन भारतीय भाषाओं के आदर्श सरक्षित हैं—जिन भाषाओं ने साहित्य में स्थान पाया है, उनके नाम ये हैं—वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, अशोक लिपि तथा उसके बाद की लिपि की भाषा और प्राकृत भाषा-समूह। इनमें प्रथम की दो भाषाएँ कभी जन साधारण की कथ्य भाषा नहीं थीं, केवल लेख्य—साहित्यिक भाषा—ही थीं। अवशिष्ट भाषाएँ कथ्य और लेख्य उभय रूप में प्रचलित थीं। इस

समय ये समस्त भाषाएँ ऋष्य रूप से व्यवहृत नहीं होती, इसी कारण ये मृत भाषा (dead language) कल्पती हैं। उक्त वैदिक आदि सब भाषाएँ आर्य भाषा के अन्तर्गत हैं और इन्हीं प्राचीन आर्य भाषाओं में से कर्तव्य क्रमशः रूपान्तरित होकर आधुनिक समस्त आर्य भाषाएँ उत्पन्न हुई हैं।

ये प्राचीन आर्य भाषाएँ कौन युग में किस रूप में परिवर्तित होकर क्रमशः आधुनिक ऋष्य भाषाओं में परिणत हुई, इसका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

### प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिणति क्रम

सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (Linguistic survey of India) नामक पुस्तक में भारतवर्षीय समस्त आर्य भाषाओं के परिणाम का जो क्रम दिग्गया है उसके अनुसार वैदिक भाषा उक्त साहित्य भाषाओं में सर्व-प्राचीन है। इसका समय अनेक विद्वानों के मत में ख्रिस्ताब्द-पूर्व दो हजार वर्ष (2000 B. C.) और प्रो मेक्समूलर के मत में ख्रिस्ताब्द-पूर्व चारह सौ वर्ष (1200 B. C.) हैं। यह वेद-भाषा क्रमशः परिमाजित होती हुई ब्राह्मण, उपनिषद् और यास्क के निरुक्त की भाषा में और बाद में पाणिनि-प्रभृति के व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होकर लौकिक संस्कृत में परिणत हुई है। पाणिनि आदि के पद-प्रभृति के नियम-रूप संस्कारों को प्राप्त करने के कारण यह संस्कृत कहलाई। मुख्य रूप से 'संस्कृत' शब्द का प्रयोग इसी भाषा के अर्थ में किया जाता है। यह संस्कृत भाषा वैदिक भाषा में उत्पन्न होने से उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखने से वेद-भाषा के अर्थ में भी 'संस्कृत' शब्द वाद के समय से प्रयुक्त होने लग गया है। पाणिनि के बाद संस्कृत भाषा का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह परिवर्तन होने में—वेद-भाषा ने लौकिक संस्कृत के रूप में परिणत होने में—प्रायः डेढ़ हजार वर्ष लगे हैं। पाणिनि का समय गोल्डरुडर के मत में ख्रिस्ताब्द-पूर्व सप्तम शताब्दी और बोथलिक के मत में ख्रिस्ताब्द-पूर्व चतुर्थ शताब्दी है।

यहाँ पर इन बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि डॉ. हॉर्नलि और सर ग्रियर्सन के मन्तव्य के अनुसार आर्य लोगों के दो दल भिन्न-भिन्न समय में भारतवर्ष में आये थे। पहले आर्यों के एक दल ने यहाँ आकर मध्यदेश में अपने उपनिवेश की स्थापना की थी। इसके कई सौ वर्षों के बाद आर्यों के दूसरे दल ने भारत में प्रवेश कर प्रथम दल के वेद और वैदिक सभ्यता आर्यों को मध्यदेश की चारों ओर भगा कर उनके स्थान को अपने अधिनार में किया और मध्यदेश को ही अपना वास-स्थान नियम किया। उक्त विद्वानों को यह मन्तव्य इसलिए करना पड़ा है कि मध्यदेश के चारों पार्श्वों में स्थित पञ्जाब, सिन्ध, गुजरात, राकपूताना, महाराष्ट्र, अयोध्या, विहार, बंगाल और उड़ीसा प्रदेशों की आधुनिक आर्य ऋष्य भाषाओं में परस्पर जो निकटता देखी जाती है तथा मध्यदेश की आधुनिक हिन्दी भाषा [ पाश्चात्य हिन्दी ] के साथ उन नव प्रान्तों की भाषाओं में जो भेद पाया जाता है, उस निकटता और भेद का अन्य कोई कारण दिग्गया असम्भव है। मध्यदेशवासी इन दूसरे दल के आर्यों का इन समय का जो साहित्य और जो सभ्यता थी इन्हीं के क्रमशः नाम हैं वेद और वैदिक सभ्यता।

1. आर्य लोगों के आदिम वास-स्थान के विषय में आधुनिक विद्वानों में गहरा मत-भेद है। कोई स्वान्डीनेविया को, कोई जर्मनी को, कोई पोलण्ड को, कोई हंगरी को, कोई दक्षिण रशिया को, कोई मध्य एशिया को आर्यों की आदिम निवास-भूमि मानते हैं तो कोई-कोई पंजाब और काश्मीर को ही इनका प्रथम वसति-स्थान बतलाते हैं। किन्तु अधिकांश विद्वान् भाषा-सत्त्व के द्वारा इन सिद्धान्त पर सन्नत हुए हैं कि युरोपीय और पूर्वदेशीय आर्यों में प्रथम विच्छेद हुआ। पीछे पूर्वदेश के आर्य लोग मेसेपोटेमिया और ईरान में एक साथ रहे और एक ही देव-देवी की उपासना करते थे। उसके बाद वे नी विच्छिन्न होकर एक दल फारस में गया और अन्य दल ने अफगानिस्तान के बीच होकर भारतवर्ष में प्रवेश और निवास किया। परन्तु जैन और हिन्दू शास्त्रों के अनुसार भारतवर्ष ही चिरकाल से आर्यों का आदिम निवास-स्थान है। कोई-कोई आधुनिक विद्वान् ने पुरातत्त्व की नूतन खोज के आधार पर भारतवर्ष से ही कुछ आर्य लोगों का ईरान आदि देशों में गमन और विन्तार-ज्ञान सिद्ध किया है, जिससे उक्त शास्त्रीय प्राचीन मत का समर्थन होता है।

उक्त वेद-भाषा प्राचीन होने पर भी वह वैदिक युग में जन-साधारण की कथ्य भाषा नहीं, ऋषि-लोगों की साहित्य-भाषा थी। उस समय जन-साधारण में वैदिक भाषा के अनुरूप अनेक प्रादेशिक भाषाएँ (dialects) कथ्य रूप से प्रचलित थीं। इन प्रादेशिक भाषाओं में से एक ने परिमार्जित होकर वैदिक साहित्य में स्थान पाया है। ऊपर वैदिक युग से प्राकृत-भाषाओं का प्रथम स्तर (ख्रिस्त-पूर्व २००० से ख्रिस्त-पूर्व ६००) का उल्लेख किया गया है उन्होंने वैदिक युग अथवा उसके पूर्व काल में अपने-अपने प्रदेशों की कथ्य भाषाओं में, दूसरे दल के आर्यों की वेद-रचना की तरह, किसी साहित्य की रचना नहीं की थी। इससे उन प्रादेशिक आर्य भाषाओं का तात्कालिक साहित्य में कोई निदर्शन न रहने से उनके प्राचीन रूपों का संपूर्ण लोप हो गया है। वैदिक काल की और इसके पूर्व की उन समस्त कथ्य भाषाओं को सर प्रियर्सन ने प्राथमिक प्राकृत (Primary Prakrits) नाम दिया है। यही प्राकृत भाषा-समूह का प्रथम स्तर (First stage) है। इसका समय ख्रिस्त-पूर्व २००० से ख्रिस्त-पूर्व ६०० तक का निर्दिष्ट किया गया है। प्रथम स्तर की ये समस्त प्राकृत भाषाएँ स्वर और व्यञ्जन आदि के उच्चारण में तथा विभक्तियों के प्रयोग में वैदिक भाषा के अनुरूप थीं। इससे ये भाषाएँ विभक्ति-बहुल (synthetic) कही जाती हैं।

वैदिक युग में जो प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ कथ्य रूप से प्रचलित थीं, उनमें परिवर्तित-काल में अनेक परिवर्तन हुए जिनमें ऋ ऋ आदि स्वरों का, शब्दों के अन्तिम व्यञ्जनों का, संयुक्त व्यञ्जनों का तथा विभक्ति और वचन-समूह का लोप या रूपान्तर मुख्य हैं। इन परिवर्तनों से ये कथ्य भाषाएँ प्रचुर परिमाण में रूपान्तरित हुईं। इस तरह द्वितीय स्तर (second stage) की प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई। द्वितीय स्तर की ये भाषाएँ जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार के समय से अर्थात् ख्रिस्त-पूर्व षष्ठ शताब्दी से लेकर ख्रिस्तीय नवम या दशम शताब्दी पर्यन्त प्रचलित रहीं। भगवान् महावीर और बुद्धदेव के समय ये समस्त प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ, अपने द्वितीय स्तर के आकार में, भिन्न-भिन्न प्रदेशों में कथ्य भाषा के तौर पर व्यवहृत होती थीं। उन्होंने अपने सिद्धान्तों का उपदेश इन्हीं कथ्य प्राकृत भाषाओं में से एक में दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि बुद्धदेव ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में न लिखकर कथ्य प्राकृत भाषा में लिखने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दिया था। इस तरह प्राकृत भाषाओं का क्रमशः साहित्य की भाषाओं में परिणत होने का सूत्रपात हुआ, जिसके फलस्वरूप पश्चिम मगध और सूरसेन देश के मध्यवर्ती प्रदेश में प्रचलित कथ्य भाषा से जैनों के धर्म-पुस्तकों की अर्ध-भागधी और पूर्व मगध में प्रचलित लोक-भाषा से बौद्ध धर्म-ग्रन्थों की पाली भाषा उत्पन्न हुई। पाली भाषा के उत्पत्ति-स्थान के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों का जो मतभेद है उसका विचार हम आगे जा कर करेंगे। ख्रिस्ताब्द से २५० वर्ष पहले सम्राट् अशोक ने बुद्धदेव के उपदेशों को भिन्न-भिन्न प्रदेशों में वहाँ-वहाँ की विभिन्न प्रादेशिक प्राकृत भाषाओं में खुदवाए। इन अशोक शिलालेखों में द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के असंदिग्ध सर्व-प्राचीन निदर्शन संरक्षित हैं। द्वितीय स्तर के मध्य भाग में—प्रायः ख्रिस्तीय पंचम शताब्दी के पूर्व में भिन्न-भिन्न प्रदेशों की अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति हुई। इस स्तर की भाषाओं में चतुर्थी विभक्ति का, सब विभक्तियों के द्विवचनों का और आख्यात की अधिकांश विभक्तियों का लोप होने पर भी विभक्तियों का प्रयोग अधिक मात्रा में विद्यमान था। इससे इस स्तर की भाषाएँ भी विभक्ति-बहुल कही जाती हैं।

सर प्रियर्सन ने यह सिद्धान्त किया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं से, खासकर उसके शेष भाग में प्रचलित विविध अपभ्रंश भाषाओं से हुई है और आधुनिक भाषाओं को 'तृतीय प्राकृत भाषाओं का तृतीय स्तर' स्तर की प्राकृत (Tertiary Prakrits) कह कर निर्देश किया है। इन भाषाओं की उत्पत्ति का समय ख्रिस्तीय दशम शताब्दी है। इनका साधारण लक्षण यह है कि इनमें अधिकांश विभक्तियों का लोप हुआ है, एवं भाषाओं की प्रकृति विभक्ति-बहुल न होकर विभक्तियों के बोधक स्वतन्त्र शब्दों का व्यवहार हुआ है। इससे ये विश्लेषणशील भाषाएँ (Analytical Languages) कही जाती हैं।

जिस प्रादेशिक अपभ्रंश से जिस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की उत्पत्ति हुई है उसका विवरण आगे 'अपभ्रंश' शीर्षक में दिया जायगा।



## द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं का इतिहास

प्रस्तुत रूप में द्वितीय स्तर की साहित्यिक प्राकृत भाषाओं के शब्दों को ही स्थान दिया गया है। इससे इन भाषाओं की उत्पत्ति और परिणति के सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ विस्तार से विवेचन करना आवश्यक है।

साधारणतः लोगों की यही धारणा है कि संस्कृत भाषा से ही द्वितीय स्तर की समस्त प्राकृत भाषाएँ और आधुनिक भारतीय भाषाएँ उत्पन्न हुई हैं। कई प्राकृत-वैयाकरणों ने भी अपने प्राकृत-व्याकरणों में इसी मत का समर्थन किया है। परन्तु यह मत वहाँ तक सत्य है इनका विचार करने के पहले इन भाषाओं के भेदों को जानने की जरूरत है।

प्राकृत का संस्कृत-सापेक्ष प्राकृत वैयाकरणों ने प्राकृत भाषाओं के शब्द, संस्कृत शब्दों के सादृश्य और पार्थक्य के अनुसार विभाग इन तीन भागों में विभक्त किए हैं—(१) तत्सम, (२) तद्भव और (३) देश्य या देशी।

(१) जो शब्द सरकृत और प्राकृत में बिलकुल एक रूप हैं उनको 'तत्सम' या 'संस्कृतसम' कहते हैं, जैसे—शब्जलि, भागम, इच्छा, ईहा, उत्तम, ज्वा, एरड, घोड्कार, किड्कार, खज्ज, गण, घटा, चित्त, छल, जल, ऋड्कार, टड्कार, डिम्म, डक्का, तिमिर, दल, धवल, नीर, परिमल, फन, बहु, भार, मरण, रस, लव, वारि, सुन्दर, हरि, गच्छन्ति, हरन्ति प्रभृति।

(२) जो शब्द संस्कृत से वर्ण-लोप, वर्णागम अथवा वर्ण-परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं वे 'तद्भव' अथवा 'संस्कृतभव' कहलाते हैं, जैसे—अग्र = अग्न, आर्य = आरिभ्र, इष्ट = इड्ड, ईर्ष्या = ईसा, उद्गम = उगम, कृष्ण = कसण, खर्जूर = खज्जूर, गज = गध, घर्म = घम्म, चक्र = चक्क, क्षीम = क्षोह, यज्ञ = जक्क, ध्यान = भाण, दंश = डंस, नाथ = णाह, त्रिदश = त्रिभ्रस, दृष्ट = दिट्ट, धार्मिक = धम्मिभ्र, पश्चात् = पच्छा, स्वयं = फंम, बदर = वोर, भार्या = भारिभा, मेघ = मेह, अरण्य = ररण, लेश = लेस, शेष = सेस, हृदय = हिभ्रम, भवति = हवड, पिवति = पिभ्रड, पृच्छति = पुच्छड, अक्रापीत् = अक्रापी, भविष्यति = होहिड इत्यादि।

(३) जिन शब्दों का संस्कृत के साथ कुछ भी सादृश्य नहीं है—कोई भी सम्बन्ध नहीं है; उनको 'देश्य' या 'देशी' बोला जाता है, यथा—अग्रय (देश्य), आकासिय (पर्याप्त), इराव (हस्ती), ईस (वीलक), उग्रचित्त (अपगत), ऊसभ्र (उपधान), एलविल (घनाह्य, वृषभ), घोडल (धम्मिल्ल), कदोड (कुमुद), खुड्डिय (मुरत), गयसाजल (विरक्त), घड (स्तूप), चडक्कर (कार्तिकेय), छकुई (कपिच्छू), जघ (पुरुष), ऋड्प (शीघ्र), टका (जङ्घा), डाल (शाखा), डडर (पिशाच ईर्ष्या), णित्तिरडिभ्र (शुद्धि), तोमरी (लता), धम्मिभ्र (विस्तृत), दाणि (शुक्क), घयण (गृह), निन्नुत्त (निश्चित), पण्णिभा (करोटिका), फुंटा (किश-वन्ध), विट्ट (पुत्र), भुंड (सूकर), मड्डा (बलात्कार), रत्ति (माना), लंच (कुक्कुट), विच्छड्ड (समूह), सयराह (शोभ), हत्त (अभिमुख), उभ्र (पश्य), सुण्णड (निमज्जति), छिवड (स्पृशति), देक्खड (पश्यति), चुक्कड (अस्यति), चोण्डड (असति), अहिपच्छुण्ड (गृह्णाति) प्रभृति।

उपर्युक्त विभाग प्राकृत के साथ संस्कृत के सादृश्य और पार्थक्य के ऊपर निर्भर करता है। इसके सिवा संस्कृत और प्राकृत के प्राचीन ग्रन्थकारों ने प्राकृत भाषाओं का और एक विभाग किया है जो प्राकृत भाषाओं के उत्पत्ति-स्थानों से संबन्ध रखता है। यह भौगोलिक विभाग (Geographical Classification) कहा जा सकता है। भरत-प्राकृत भाषाओं का प्रणीत कहे जाते नाट्य-शास्त्र में, सात भाषाओं को जो मागधी, अत्रन्तिजा, प्राच्या, सूरसेनी, भौगोलिक विभाग अर्धमागधी, वाह्लीका और दाक्षिणात्या के नाम हैं, चण्ड के प्राकृत-व्याकरण में जो पेशाचिकी और मागधिका के नाम मिलते हैं, ढण्डी ने कान्यादर्श में जो महाराष्ट्राश्रया, शौरसेनी, गौडी और लाटी के नाम दिए हैं, आचार्य हेमचन्द्र आदि ने मागधी, शौरसेनी, पेशाची और चूलिकापेशाचिक कह कर जिन नामों का निर्देश

१ "मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यर्धमागधी।

वाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीर्तिता ॥" (नाट्यशास्त्र १७, ४८)।

२. "पेशाचिक्या रणयोर्लनी" (प्राकृतलक्षण ३, ३८)।

३ "नागधिकाया रत्तयोर्लनी" (प्राकृतलक्षण ३, ३९)।

४. 'महाराष्ट्राश्रया भाषा प्रकृतं प्राकृत विदुः।

नागर सूत्तिरत्ताना सेनुवन्नादि यन्मयम् ॥

शौरसेनी च गौडी च लाटी चान्या च तादृशी।

माति प्रकृतमित्येवं ध्यवहारेषु सर्वाणि ॥" (काव्यादर्श १, ३४ ३५)।

किया है और मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व में प्राकृतचन्द्रिका के 'कतिपय श्लोकों को उद्धृत कर महाराष्ट्री, आवन्ती, शौरसेनी, अर्धमागधी, वाह्लीकी, मागधी, प्राच्या और दक्षिणात्या इन आठ भाषाओं के, छह विभाषाओं में द्राविड़ और ओड्डुज इन दो विभाषाओं के, ग्यारह पिशाच-भाषाओं में काञ्चदेशीय, पाण्ड्य, पाञ्चाल, गौड, मागध, ब्राचड, दक्षिणात्य, शौरसेन, कैक्य और द्राविड़ इन दस पिशाच-भाषाओं के और सताईस अपभ्रंशों में ब्राचड, लाट, वैदर्भ, वार्वर, आवन्त्य, पाञ्चाल, टाक, माल्य, कैक्य, गौड, उड्ड, हैव, पाण्ड्य, कौन्तल, सिंहल, कालिङ्ग, प्राच्य, ऋणाट, काञ्च, द्राविड़, गौर्जर, आभीर और मध्यदेशीय इन तेईस अपभ्रंशों के जिन नामों का उल्लेख किया है वे उस भिन्न-भिन्न देश से ही सम्बन्ध रखते हैं जहाँ-जहाँ वह-वह भाषा उत्पन्न हुई है। पद्मभाषाचन्द्रिका के कर्ता ने 'शूरसेन' देश में उत्पन्न भाषा शौरसेनी कही जाती है, मगध देश में उत्पन्न भाषा को मागधी कहते हैं और पिशाच-देशों की भाषा पैशाची और चूलिकापैशाची है' यह लिखते हुए यहाँ बात अधिक स्पष्ट रूप में कही है।

पूर्व में प्राकृत भाषाओं के शब्दों के जो तीन प्रकार दिखाए हैं उनमें प्रथम प्रकार के तत्सम शब्द सस्कृत से ही सव देशों के प्राकृतों में लिये गए हैं, दूसरे प्रकार के तद्भव शब्द सस्कृत से उत्पन्न होने पर भी प्राकृत वैयाकरणों के मत से ताल-क्रम से भिन्न-भिन्न देश में भिन्न-भिन्न रूप को प्राप्त हुए हैं और तीसरे प्रकार के देश्य शब्द तत्सम आदि शब्दों के प्रकृति वैदिक अथवा लौकिक संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुए हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न देश में प्रचलित भाषाओं से गृहीत हुए हैं। प्राकृत वैयाकरणों का यही मत है।

### देश्य शब्द

पहले प्राकृत भाषाओं का जो भौगोलिक विभाग बनाया गया है, वे तृतीय प्रकार के देश्यशब्द उसी भौगोलिक विभाग से उत्पन्न हुए हैं। वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषा पंजाब और मध्यदेश में प्रचलित वैदिक मूल काल की प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई है। पंजाब और मध्यदेश के बाहर के अन्य प्रदेशों में उस समय आर्य लोगों की जो प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ प्रचलित थीं उन्हीं से ये देश्यशब्द गृहीत हुए हैं। यही कारण है कि वैदिक और संस्कृत साहित्य में देश्यशब्दों के अनुरूप कोई शब्द (प्रतिशब्द) नहीं पाया जाता है।

प्राचीन काल में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ ह्यात थीं, इस बात का प्रमाण व्यास के महाभारत, भरत के नाट्यशास्त्र और वात्स्यायन के कामसूत्र आदि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में और जैनों के ज्ञातावर्मकथा, विपाकश्रुत, औपपातिकसूत्र तथा राजप्रश्नीय आदि प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों में भी मिलता है<sup>३</sup>। इन ग्रन्थों में 'नानाभाषा', 'देशभाषा' या 'देशीभाषा' शब्द का प्रयोग प्रादेशिक प्राकृत के अर्थ में ही किया गया है। चड ने अपने प्राकृत व्याकरण में जहाँ देशीप्रसिद्ध प्राकृत

१ ये श्लोक 'पैशाची' और 'अपभ्रंश' के प्रकरण में दिए गए हैं।

२. "शूरसेनोद्भवा भाषा शौरसेनीति गीयते।

मगधीत्वन्नभाषा ता मागधी सप्रचक्षते।

पिशाचदेशनियत पैशाचीद्वितय भवेत् ॥" (पद्मभाषाचन्द्रिका, पृष्ठ २)।

३ "नानावर्मभिराच्छन्ना नानाभाषाश्च भारत। कुशना देशभाषासु जल्यन्तोऽप्योन्यमीधरा।" (महाभारत, शल्यपर्व ४६, १०३)।

"अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि देशभाषाविकल्पनम्।"

"अथवा च्यन्दत कार्या देशभाषा प्रयोक्तुमि।" (नाट्यशास्त्र १७, २४, ४६)।

"नात्यन्त संस्कृतेनैव नात्यन्तं देशभाषया। कथा गोष्ठीषु कथयन्तोके बहुमतो भवेत्" (कामसूत्र १, ४, ५०)।

"तते ए से मेहे कुमारे. . . अट्टारसदेसीभासाविसारए होत्या", "तत्य ए चपाए नयरीए देवदत्ता नाम गणिया परिवसइ अड्डा.. अट्टारसदेसीभासाविसारया" (ज्ञातावर्मकथासूत्र, पत्र ३८, ६२)।

"तत्य ए वाणियगामे कामञ्जया एगाम गणिया होत्या . . . अट्टारसदेसीभासाविसारया" (विपाकश्रुत, पत्र २१-२२)।

'तए ए दढपइएणे दारए . . . अट्टारसदेसीभासाविसारए" (औपपातिक सूत्र, पैरा १०६)।

"तए ए से दढपतिएणे दारए . . . अट्टारसविहदेसिपणारभासाविसारए" (राजप्रश्नीयसूत्र, पत्र १४८)।

४ "सिद्धं प्रसिद्धं प्राकृतं त्रेधा त्रिप्रकार भवति—सस्कृतयोनि . . . संस्कृतसमं . . . देशीप्रसिद्धं तच्चेद ह्यपिंतं = ल्हसिद्ध" (प्राकृतलक्षण पृष्ठ १-२)।

का उल्लेख किया है वहाँ भी देशी शब्द का अर्थ देशीभाषा ही है। ये सब देशी या प्रादेशिक भाषाएँ भिन्न-भिन्न प्रदेशों के निवासी आर्य लोगों की ही कथ्य भाषाएँ थीं। इन भाषाओं का पञ्जाब और मध्यदेश की कथ्य भाषा के साथ अनेक अंशों में जैसे सादृश्य था वैसे किसी किसी अंश में भेद भी था। जिन जिन अंश में इन भाषाओं का पञ्जाब और मध्यदेश की प्राकृत भाषा के साथ भेद था उसमें से जिन भिन्न-भिन्न नामों ने और धातुओं ने प्राकृतसाहित्य में खान पाया है वे ही हैं प्राकृत के देशी या देश्य शब्द।

प्राकृत वैयाकरणों ने इन समस्त देश्य शब्दों में अनेक नाम और धातुओं को संस्कृत नामों के और धातुओं के स्थान में आदेश-द्वारा सिद्ध करके तद्व्य विभाग में अन्तर्गत किए हैं<sup>१</sup>। यही कारण है कि आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी देशीनाममाला में केवल देशी नामों का ही उल्लेख किया है और देशी धातुओं का अपने प्राकृत-व्याकरण में संस्कृत धातुओं के आदेश-रूप में उल्लेख किया है, यद्यपि आचार्य हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती कई वैयाकरणों ने इनकी गणना देशी धातुओं में ही की है<sup>२</sup>। ये सब नाम और धातु संस्कृत के नाम और धातुओं के आदेश-रूप में लिखने पर भी तद्व्य नहीं मटे जा सकते, क्योंकि संस्कृत के साथ इनका कुछ भी सादृश्य नहीं है।

कोई कोई पाश्चात्य भाषातत्त्वज्ञ का यह मत है कि उक्त देशी शब्द और धातु भिन्न-भिन्न देशों की द्रविड़, मुण्डा आदि अनार्य भाषाओं से लिए गए हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यदि आधुनिक अनार्य भाषाओं में इन देशी-शब्दों और देशी-धातुओं का प्रयोग उपलब्ध हो तो यह अनुमान करना असंगत नहीं है। किन्तु जतनक यह प्रमाणित न हो कि 'ये देशी शब्द और धातु वर्तमान अनार्य भाषाओं में प्रचलित हैं', तबतक 'ये देशी शब्द और धातु प्रादेशिक आर्य भाषाओं से ही गृहीत हुए हैं' यह कहना ही अधिक संगत प्रतीत होता है। इन अनार्य भाषाओं में दो एक देश्य शब्द और धातु प्रचलित होने पर भी 'वे अनार्य भाषाओं से ही प्राकृत भाषाओं में लिए गए हैं' यह अनुमान न कर 'प्राकृत भाषाओं से ही वे देश्य शब्द और धातु अनार्य भाषाओं में गए हैं' यह अनुमान किया जा सकता है। हाँ, जहाँ ऐसा अनुमान करना असंभव हो वहाँ हम यह खबर करने के लिए बाध्य होंगे कि 'ये देश्य शब्द और धातु अनार्य भाषाओं से ही प्राकृत में लिए गए हैं, क्योंकि आर्य और अनार्य के उभय जातियों जब एक स्थान में निश्चित हो गईं हैं तब कोई कोई अनार्य शब्द और धातु का आर्य भाषाओं में प्रवेश करना असंभव नहीं है।

डॉ काल्डवेल (Caldwell) प्रभृति के मत में वैदिक और लौकिक संस्कृत में भी अनेक शब्द द्राविडीय भाषाओं से गृहीत हुए हैं। यह बात भी सदिग्ध ही है, क्योंकि द्राविडीय भाषा के जिस साहित्य में ये सब शब्द पाये जाते हैं वह वैदिक संस्कृत के साहित्य से प्राचीन नहीं है। इससे 'वैदिक साहित्य में ये सब शब्द द्राविडीय भाषा से गृहीत हुए हैं' इस अनुमान की अपेक्षा 'आर्य लोगों की भाषा से ही अनार्यों की भाषा में ये सब शब्द लिए गए हैं यह अनुमान ही विशेष ठीक मालूम पड़ता है।

जिन प्रादेशिक देशी-भाषाओं से ये सब देशी शब्द प्राकृत-साहित्य में गृहीत हुए हैं वे पूर्वोक्त प्रथम स्तर की प्राकृत भाषाओं के अन्तर्गत और उनकी समसामयिक हैं। ख्रिस्त-पूर्व षष्ठ शताब्दी के पहले ये सब देशीभाषाएँ प्रचलित थीं, इससे ये देश्य शब्द अर्वाचीन नहीं, किन्तु उतने ही प्राचीन हैं जितने कि वैदिक शब्द।

**द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति—वैदिक या लौकिक संस्कृत से नहीं, किन्तु**

**प्रथम स्तर की प्राकृतों से**

प्राकृत के वैयाकरण-गण प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति में प्रकृत शब्द का अर्थ संस्कृत करने हुए प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति लौकिक संस्कृत से मानते हैं। संस्कृत के कई अलंकार शास्त्रों के टीकारारों ने भी तद्व्य और तत्सम शब्दों में स्थित

१ देखो हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण के द्वितीय पाद के १२७, १२६, १३४, १३६, १३८, १४१, १७४ वगैरह सूत्र और चतुर्थ पाद के २, ३, ४, ५, १०, ११, १२ प्रभृति सूत्र।

२ 'एते चान्यैर्देशीयु पठिता अपि प्रस्मामिवात्वादेशीकृता' (हिं० प्रा० ४, २), अर्थात् अन्य विद्वानों ने वज्जर, पञ्जर, उषाल प्रभृति धातुओं का पाठ देशी में किया है, तो भी हमने संस्कृत धातु के आदेश-रूप से ही ये यहाँ बताए हैं।

‘तत्’ शब्द का सम्बन्ध संस्कृत से लगाकर इस मत का अनुसरण किया है<sup>१</sup>। कतिपय प्राकृत-व्याकरणों में प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह की गई है —

‘प्रकृति संस्कृत, तत्र भव तत् आगतं वा प्राकृतम्’ (हेमचन्द्र प्रा० व्या०) ।

‘प्रकृति संस्कृतं तत्र भव प्राकृतमुच्यते’ (प्राकृतसर्वस्व) ।

‘प्रकृति संस्कृत तत्र भवत्वात् प्राकृतं स्मृतम्’ (प्राकृतचन्द्रिका) ।

‘प्रकृते संस्कृतायास्तु विकृति प्राकृती मता’ (पद्मापाचन्द्रिका) ।

‘प्राकृतस्य तु सर्वमेव संस्कृतं योनि’ (प्राकृतसजीवनी) ।

इन व्युत्पत्तियों का तात्पर्य यह है कि प्राकृत शब्द ‘प्रकृति’ शब्द से बना है, ‘प्रकृति’ का अर्थ है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हुई है वह है प्राकृत भाषा ।

प्राकृत व्याकरणों की प्राकृत शब्द की यह व्याख्या अप्रामाणिक और अव्यापक ही नहीं है, भाषा-तत्त्व से असंगत भी है। अप्रामाणिक इसलिए कही जा सकती है कि प्रकृति शब्द का मुख्य अर्थ संस्कृत भाषा कभी नहीं होता—संस्कृत के किसी कोप में प्राकृत शब्द का यह अर्थ उपलब्ध नहीं है और गौण या लाक्षणिक अर्थ तबतक नहीं लिया जाता जबतक मुख्य अर्थ में बाध न हो। यहाँ प्रकृति शब्द के मुख्य अर्थ स्वभाव अथवा जन साधारण लेने में किसी तरह का बाध भी नहीं है। इससे उक्त व्युत्पत्ति के स्थान में ‘प्रकृत्या स्वभावेन सिद्ध प्राकृतम्’ अथवा ‘प्रकृतीना साधारणजनानामिदं प्राकृतम्’ यही व्युत्पत्ति सगत और प्रामाणिक हो सकती है। अव्यापक कहने का कारण यह है कि प्राकृत के पूर्वोक्त तीन प्रकारों में तत्सम और तद्भव शब्दों की ही प्रकृति उन्होंने संस्कृत मानी है, तीसरे प्रकार के देश्य शब्दों की नहीं, अथवा देश्य को भी प्राकृत कहा है। इससे देश्य प्राकृत में वह व्युत्पत्ति लागू नहीं होती। प्राकृत की संस्कृत से उत्पत्ति भाषा-तत्त्व के सिद्धान्त से भी सगति नहीं रखती, क्योंकि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये दोनों ही साहित्य की मार्जित भाषाएँ हैं। इन दोनों भाषाओं का व्यवहार शिक्षा की अपेक्षा रखना है। अशिक्षित, अज्ञ और वालक लोग किसी काल में साहित्य की भाषा का न तो स्वयं व्यवहार कर सकते हैं और न समझ ही पाते हैं। इसलिए समस्त देशों में सर्वदा ही अशिक्षित लोगों के व्यवहार के लिए एक कथ्य भाषा चालू रहती है जो साहित्य की भाषा से स्वतन्त्र—अलग होती है। शिक्षित लोगों को भी अशिक्षित लोगों के साथ बातचीत के प्रसंग में इस कथ्य भाषा का ही व्यवहार करना पड़ता है। वैदिक समय में भी ऐसी कथ्य भाषा प्रचलित थी। और जिस समय लौकिक संस्कृत भाषा प्रचलित हुई उस समय भी साधारण लोगों की स्वतन्त्र कथ्य भाषा विद्यमान थी, यह नाटक आदि में संस्कृत भाषा के साथ प्राकृत-भाषी पात्रों के उल्लेख से प्रमाणित होता है।

पाणिनि ने संस्कृत भाषा को जो लौकिक भाषा कही है और पतञ्जलि ने इसको जो शिष्ट-भाषा का नाम दिया है, उसका मतलब यह नहीं है कि उस समय प्राकृत भाषा थी ही नहीं, परन्तु उसका अर्थ यह है कि उस समय के शिक्षित लोगों के आपस के वार्तालाप में, वर्तमान काल के पण्डित लोगों में संस्कृत की तरह और भिन्नदेशीय लोगों के साथ के व्यवहार Lingua Franca की भाँति संस्कृत भाषा व्यवहृत होती थी। किन्तु वालक, स्त्रियाँ और अशिक्षित लोग अपनी मातृ-भाषा में बातचीत करते थे जो संस्कृत-भिन्न साधारण कथ्य भाषा थी। साधारण कथ्य भाषा किसी देश में किसी काल में साहित्य की भाषा से गृहीत नहीं होती, बल्कि साहित्य-भाषा ही जन-साधारण की कथ्य भाषा से उत्पन्न होती है। इसलिए ‘संस्कृत से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई है’ इसकी अपेक्षा ‘क्या तो वैदिक संस्कृत और क्या लौकिक संस्कृत दोनों ही उस समय की प्राकृत भाषाओं से उत्पन्न हुई हैं’ यही सिद्धान्त विशेष युक्ति सगत है। आजकल के भाषा तत्त्वज्ञों में इसी सिद्धान्त का अधिक आदर देखा जाता है। यह सिद्धान्त पश्चात्य विद्वानों का कोई नूतन आविष्कार नहीं है, भारतवर्ष के

१ ‘प्रकृते संस्कृतादागतं प्राकृतम्’ (वाग्भट्टालकारटीका २, २), ‘संस्कृतरूपाया प्रकृतेरुत्पन्नत्वात् प्राकृतम्’ (काव्यादर्श की प्रेमचन्द्र-तर्कवागीश-कृत टीका १, ३३) ।

२ ‘प्रकृतियोंनिशित्पिनो । पौरामात्यादिनिगेषु गुणसाम्यस्वभावयो । प्रत्यात् पूर्विकाया च’ (अनेकार्थसंग्रह ८७६-७) ।

३ ‘स्वाम्यमात्य सुहृत्कोशो राष्ट्रदुर्गंवलानि च ।

राज्याङ्गानि प्रकृतय पौराणा श्रेणयोऽपि च ॥ (प्रनिवानचिन्तामणि ३, ३७८) ।

‘मत् कात्य —ममात्याद्याथ पौराथ सदिम प्रकृतय स्मृता’ (अ० चि० ३, ३७८ की टीका) ।

४. कोई कोई आधुनिक विद्वान् प्राकृत भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से मानते हैं, देखो ‘पाली-प्रकाश’ का प्रवेशक पृष्ठ ३४-३६ ।

ही प्राचीन भाषातत्त्वज्ञों में भी यह मत प्रचलित था यह निम्नोद्धृत कतिपय प्राचीन ग्रन्थों के अवतरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है। सूत्र कृत काव्यालङ्कार के एक श्लोक की व्याख्या में त्रिस्त की ग्यारहवीं शताब्दी के जैन-विद्वान नमिसाधु ने लिखा है कि—

“प्राकृतेति । मकलजगज्जन्तूना ध्याकरणादिभिरनाहितरुस्कार सृजो वचन-व्यापार प्रवृत्ति, तत्र नव गेन वा प्राकृतम् । भारि-सवयणे सिद्ध देवाण्य अद्धमागहा वाणी इत्यादिवचनाद् वा प्राक् पूर्वं कृत प्राकृतं बाल-महिलादि-सुबोध मकलभाषा-मन्वन्मूत वचनमुच्यते । मेघनिमुं कजलमिवैकस्वरूपं तदेव च देशविशेषात् संस्कारकरणाच्च नमासादितविशेष सत् सञ्ज्ञाद्यनरविनेदानान्मोनि । अत एव शास्त्रकृता प्राकृतमादौ निर्दिष्ट तदनु सञ्ज्ञतादीनि । पाणिन्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणेन सम्करणात् सञ्ज्ञतमुच्यते ।”

इस व्याख्या का तात्पर्य यह है कि—‘प्रवृत्ति’ शब्द का अर्थ है लोगों का व्याकरण आदि के संस्कारों से रहित स्वभाविक वचन-व्यापार, उससे उत्पन्न अथवा वही है प्राकृत । अथवा ‘प्राक् कृत’ पर से प्राकृत शब्द बना है, ‘प्राक् कृत’ का अर्थ है ‘पहले किया गया’ । बारह अंग-ग्रन्थों में ग्यारह अंग ग्रन्थ पहले किए गए हैं और इन ग्यारह अङ्ग ग्रन्थों की भाषा अप्रति वचन में—सूत्र ने अर्धमागधी कही गई है जो बालक, महिला आदि को सुबोध—सहज गम्य है और जो सकल भाषाओं का मूल है । यह अर्धमागधी भाषा ही प्राकृत है । यही प्राकृत, मेघ-मुक्त जल की तरह, पहले एक रूपवाला होने पर भी, देश-भेद से और संस्कार करने से निम्नता को प्राप्त करता हुआ संस्कृत आदि अग्रान्तर विभेदों में परिणत हुआ है अर्थात् अर्धमागधी प्राकृत में संस्कृत और ग्रन्थान्य प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई है । इसी कारण से मूल ग्रन्थकार (सूत्र) ने प्राकृत का पहले और संस्कृत आदि बाद में निर्देश किया है । पाणिन्यादि व्याकरणों में बताए हुए नियमों के अनुसार संस्कार पाने के कारण संस्कृत कहलाती है ।

‘अकृत्रिमस्वादुपदैर्जन जन जिनेन्द्र साक्षादिव पामि भाषिते’ (द्वित्रिशद्व्याकरणिका १, १८) ।

‘अकृत्रिमस्वादुपदा जैती वाचमुपाम्महे ।’ (हेमचन्द्रकाव्यानुशासन, पृष्ठ १) ।

उक्त पद्यों में त्रमश महाकवि मिद्धसेन विचार और आचार्य हेमचन्द्र जैसे समर्थ विद्वानों का जिनदेव की वाणी को ‘अकृत्रिम’ और संस्कृत भाषा को ‘कृत्रिम’ कहने का भी रहस्य यही है कि प्राकृत जन-साधारण की मातृभाषा होने के कारण अकृत्रिम—स्वाभाविक है और संस्कृत भाषा व्याकरण के संस्कार-रूप बनावटीपन से पूर्ण होने के हेतु कृत्रिम है ।

१. “प्राकृतसंस्कृतमागधपिशाचभाषाश्च शौरसेनी च ।

पष्ठोऽत्र भूरिभेदो देशविशेषादपत्र श ॥” (काव्यालंकार २, १२) ।

२. बारहवाँ अङ्ग-अथ, जिसका नाम दृष्टिवाद है और जिसमें चौदह पूर्व (प्रकरण) थे, संस्कृत भाषा में था । यह बहुत काल से लुप्त हो गया है । यद्यपि इसके निपयों का सक्षिप्त वर्णन समवायाङ्गमूत्र में है ।

“चतुदश्यापि पूर्वाणि संस्कृतानि पुराऽभवन् ॥११४॥

प्रनातिशयनाच्यानि तान्युच्छिन्नानि कालत । अमुनैकादशाङ्ग्यस्ति मुघर्षस्वामिभाषिता ॥११५॥

बालक्रीमूढपूर्वादिजनानुग्रहणाय च । प्राकृता तामिहाकार्पाव’ (प्रभावकरिच, पृ० ६८-६९) ।

३. “भुत्तुण दिट्ठिवाय कानियउकालियगसिद्ध तं । थोवालवायरात्थ पाययमुदय जिएवरेहि ॥”

(आचारदिनकर में उद्धृत प्राचीन गाथा) ।

“बालक्रीमन्दमूर्खारणा नृणा चारित्रकाक्षिणाम् । अनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञै सिद्धान्त प्राकृत कृत ॥”

(दशवैकालिक टीका पत्र १८० में हरिभद्रसूरि द्वारा और काव्यानुशासन की टीका पृ० १ में आचार्य हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत किया हुआ प्राचीन श्लोक) ।

४. “अकृत्रिमाणि—असंस्कृतानि, अत एव स्वादूनि मन्वेषियामपि पेशलानि पदानि यस्यामिति विग्रहः” (काव्यानुशासनटीका) । आचार्य हेमचन्द्र की ‘अकृत्रिम’ शब्द की इस स्पष्ट व्याख्या से प्रतीत होता है कि उनका अपने प्राकृत-व्याकरण में प्राकृत की प्रकृति संस्कृत कहना सिद्धान्त नित्यण के लक्ष्य से नहीं, परन्तु अपने प्राकृत-व्याकरण की रचना शैली के उपलक्ष में है, क्योंकि सभी उपलब्ध प्राकृत-व्याकरणों की तरह हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण में भी संस्कृत पर से ही प्राकृत-शिक्षा की पद्धति अलतवार की गई है और इस पद्धति में प्रकृति—मूल के स्थान में संस्कृत को रखना अनिवार्य हो जाता है । अथवा यह भी अनुभव नहीं है कि व्याकरण-रचना के समय उनका यही सिद्धान्त रहा हो जो बाद में बदल गया हो और इस परिवर्तित सिद्धान्त का काव्यानुशासन में प्रति-पादन किया हो । काव्यानुशासन की रचना व्याकरण के बाद उन्होंने की है यह काव्यानुशासन की “शब्दानुशासनेऽस्माभि साध्यो वाचो विवेचिताः” (पृष्ठ २) इस उक्ति से ही सिद्ध है ।

केवल जैन विद्वानों में ही यह मत प्रचलित न था, ख्रिस्त की आठवीं शताब्दी के जैनैतर महाकवि वाकपतिराज ने भी अपने 'गण्डवहो' नामक महाकाव्य में इसी मत को इन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है —

“सयलाभो इम वाया विसति एतो य एति वायाभो ।

एति समुहं चिय एति नायराभो श्विय जलाई ॥६३॥”

अर्थात् इसी प्राकृत भाषा में सब भाषाएँ प्रवेश करती हैं और इस प्राकृत भाषा से ही सब भाषाएँ निर्गत हुई हैं, जल (भा कर) समुद्र में ही प्रवेश करता है और समुद्र से ही (वाष्प रूप से) बाहर होता है। वाक्यति के इस पद्य का मर्म यही है कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति अन्य किसी भाषा से नहीं हुई है, बल्कि संस्कृत आदि सब भाषाएँ प्राकृत से ही उत्पन्न हुई हैं।

ख्रिस्त की नवम शताब्दी के जैनैतर कवि राजशेखर ने भी अपने 'वालरामायण' में नीचे का श्लोक लिखकर यही मत प्रकट किया है —

“यद् योनि किल संस्कृतस्य सुदृशा जिह्वामु यन्मोदते, यत्र श्रोत्रपथावतारिणि कटुर्भाषासराणा रम ।

गद्य चूर्णपदं पद रतिपतेस्तत् प्राकृतं यद्वचस्तत्स्लाटल्लजिताङ्ग पश्य नुदती दृष्टेनिमेपन्नतम् ॥” (४८, ४९) ।

जैन और जैनैतर विद्वानों के उक्त वचनों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल के भारतीय भाषातत्त्वज्ञों में भी यह मत प्रबल रूप से प्रचलित था कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से नहीं है।

प्राकृत भाषा लौकिक संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुई है इसका और भी एक प्रमाण है। वह यह कि प्राकृत के अनेक शब्द और प्रत्ययों का लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक भाषा के साथ अधिक मेल देखने में आता है। प्राकृत भाषा साध्याद्रूप से लौकिक संस्कृत से उत्पन्न होने पर यह कभी संभव नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी प्राकृत के अनुरूप अनेक शब्द और प्रत्ययों के प्रयोग विद्यमान हैं। इससे यह अनुमान करना किसी तरह असंगत नहीं है कि वैदिक संस्कृत और प्राकृत ये दोनों ही एक प्राचीन प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई हैं और यही इस सादृश्य का कारण है। वैदिक भाषा और प्राकृत के सादृश्य के कतिपय उदाहरण हम नीचे उद्धृत करते हैं, ताकि उक्त कथन की सत्यता में कोई सदेह नहीं हो सकता।

### वैदिक भाषा और प्राकृत में सादृश्य

१ प्राकृत में अनेक जगह संस्कृत ऋकार के स्थान में उकार होता है, जैसे—वृन्द = वुन्द, ऋतु = उत, पृथिवी = पुहवी, वैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग पाये जाते हैं, जैसे—कृत = कुठ ( ऋग्वेद १, ४६, ४ ) ।

२ प्राकृत में सयुक्त वर्णवाले कर्डे स्थानों में एक व्यञ्जन का लोप होकर पूर्व के ह्रस्व स्वर का दीर्घ होता है, जैसे—दुर्लभ = दूर्लह, विश्राम = वीसाम, स्पर्श = फास, वैदिक भाषा में भी वैसा होता है, यथा—दुर्लभ = दूर्लभ ( ऋग्वेद ४, ६, ८ ), दुर्गाश = दूर्गाश ( शुक्लयजु प्रातिशिक्ष्य ३, ४३ ) ।

३. संस्कृत व्यञ्जनान्त शब्दों के अन्य व्यञ्जन का प्राकृत में सर्वत्र लोप होता है, जैसे—तावत् = ताव, यशस् = जस, वैदिक साहित्य में भी इस नियम का अभाव नहीं है, यथा—पश्नात् = पश्ना ( अथर्वसंहिता १०, ४, ११ ), उच्चात् = उच्चा ( तैत्तिरीयसंहिता २, ३, १४ ), नीचात् = नीचा ( तैत्तिरीयसंहिता १, २, १४ ) ।

४ प्राकृत में सयुक्त र और य का लोप होता है, जैसे—प्रगल्भ = पगल्भ, श्यामा = सामा, वैदिक साहित्य में भी यह पाया जाता है, यथा—अ-प्रगल्भ = अ-पगल्भ ( तैत्तिरीयसंहिता ४, ५, ६१ ), त्र्यच = त्रिच ( शतपथब्राह्मण १, ३, ३, ३३ ) ।

५ प्राकृत में सयुक्त वर्ण का पूर्व स्वर ह्रस्व होता है, यथा—पात्र = पत्र, रात्रि = रत्ति, साध्य = सज्फ इत्यादि, वैदिक भाषा में भी ऐसे प्रयोग हैं, जैसे—रोदमीप्रा = रोदसिप्रा ( ऋग्वेद १०, ५८, १० ), अमात्र = अमत्र ( ऋग्वेद ३, ३६, ४ ) ।

६ प्राकृत में संस्कृत द का अनेक जगह ड होता है, जैसे—दण्ड = डण्ड, दंस = डंस, दोला = डोला, वैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग दुर्लभ नहीं हैं, जैसे—दुर्दभ = दूर्दभ ( वाजसनेयसंहिता ३, ३६ ), पुरोदास = पुरोडाश ( शुक्लयजु प्रातिशिक्ष्य ३, ४४ ) ।

७ प्राकृत में घ का ह होता है, यथा—वधिर = वहिर, व्याघ्र = वाह, वेद-भाषा में भी ऐसा पाया जाता है, जैसे—प्रनिसवाय = प्रतिसहाय ( गोपयब्राह्मण २, ४ )।

८ प्राकृत में अनेक शब्दों में सयुक्त व्यञ्जनों के बीच में स्वर का आगम होता है, जैसे—क्लिष्ट = क्लिष्ट, स्य = सुय तन्वी = तणुवी, वैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग विरल नहीं हैं, यथा—महस्य = महस्त्रिय, स्वर्ग = सुवर्गः ( तैत्तिरीयसंहिता ४, २, ३ ), तन्व = तनुव, त्व = सुव ( तैत्तिरीयप्रारण्यक ७ २२, १, ६, २, ७ )।

९ प्राकृत में अकारान्त पुलङ्ग शब्द के प्रथमा के एकवचन में ओ होता है, जैसे—देवो, जिणो, सो इत्यादि, वैदिक भाषा में भी प्रथमा के एकवचन में कहीं-कहीं ओ देखा जाता है, यथा—संवत्सरो अजायत ( ऋग्वेदसंहिता १०, १६०, २ ), मो विन् ( ऋग्वेदसंहिता १, १६१, १०-११ )।

१०. तृतीया विभक्ति के बहुवचन में प्राकृत में देव आदि अकारान्त शब्दों के रूप देवेहि, गभीरेहि, जेद्वेहि आदि होते हैं, वैदिक साहित्य में भी इनके अनुरूप देवेभि, गम्भीरेभिः, ज्येष्ठेभि आदि रूप मिलते हैं।

११ प्राकृत की तरह वैदिक भाषा में भी चतुथा के स्थान में पश्री विभक्ति होती है।

१२. प्राकृत में पञ्चमा क एकवचन में देवा, वञ्जा, जिगा आदि रूप होते हैं, वैदिक साहित्य में भी इसी तरह के उच्चा, नीचा पञ्चा प्रभृति उपलब्ध होते हैं।

१३ प्राकृत में द्विवचन के स्थान में बहुवचन ही होता है वैदिक भाषा में भी इस तरह के अनेकों प्रयोग मौजूद हैं, यथा—‘इन्द्रावरुणो’ के स्थान में ‘इन्द्रावरुणा’, ‘मित्रावरुणौ’ का जगह ‘मित्रावरुणा’, ‘यौ सुरथौ रथितमौ दिविसृष्टावश्चिनौ’ के बदले ‘या सुरथा रथितमा दिविस्त्रुशा आश्वना’, ‘नरौ हे’ के स्थल में ‘नरा हे’ आदि।

इस तरह अनेक युक्ति और प्रमाणों से यह साबित होता है कि प्राकृत की उत्पत्ति वैदिक अथवा लौकिक संस्कृत से नहीं, किन्तु वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति जिस प्रथम स्तर की प्रादेशिक प्राकृत भाषा से पूर्व में कही गई है उसीसे हुई है। इससे यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि संस्कृत के अनेक आलंकारिकों ने और प्राकृत के प्रायः समस्त वैयाकरणों ने ‘तत्’ शब्द से संस्कृत को लेकर ‘तद्भव’ शब्द का जो व्यवहार ‘संस्कृतभव’ अर्थ में किया है वह किसी तरह सगत नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ ‘तत्’ शब्द से संस्कृत के स्थान में वैदिक काल के प्राकृत का ग्रहण कर ‘तद्भव’ शब्द का प्रयोग वैदिक काल के प्राकृत से जो शब्द संस्कृत में लिया गया है उससे उत्पन्न इसी अर्थ में करना चाहिए। संस्कृत शब्द और प्राकृत तद्भव शब्द इन दोनों का साधारण मूल वैदिक काल का प्राकृत अर्थात् पूर्वोक्त प्राथमिक प्राकृत या प्रथम स्तर का प्राकृत है। इससे यहाँ पर ‘तद्भव’ शब्द का सैद्धान्तिक अर्थ ‘संस्कृतभव’ नहीं, किन्तु ‘वैदिक काल के प्राकृत से उत्पन्न’ यही समझना चाहिए।

### द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं का उत्पत्ति-क्रम और उनके प्रधान भेद

जब उपर्युक्त कथन के अनुसार वैदिक तथा लौकिक संस्कृत और समस्त प्राकृत भाषाओं का मूल एक ही है और वैदिक तथा लौकिक संस्कृत द्वितीय स्तर की सभी प्राकृत भाषाओं से प्राचीन है, तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के उत्पत्ति-क्रम का निर्णय एकमात्र उसी सादृश्य के तारतम्य पर निर्भर करता है जो उभय संस्कृत और प्राकृत तद्भव शब्दों में पाया जाता है। जिस प्राकृत भाषा के तद्भव शब्दों का वैदिक और लौकिक संस्कृत के साथ जितना अधिक सादृश्य होगा वह उतनी ही प्राचीन और जिसके तद्भव शब्दों का उभय संस्कृत के साथ जितना अधिक भेद होगा वह उतनी ही अर्वाचीन मानी जा सकती है, क्योंकि अधिक भेद के उत्पन्न होने में समय भी अधिक लगता है यह निर्विवाद है।

द्वितीय स्तर की जिन प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में अथवा शिलालेखों में स्थान पाया है उनके शब्दों की वैदिक और लौकिक संस्कृत के साथ, उपर्युक्त पद्धति से तुलना करने पर, जो भेद (पार्थक्य) देखने में आते हैं उनके अनुसार द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के निम्नोक्त प्रधान भेद (प्रकार) होते हैं, जो क्रम से इन तीन मुख्य काल-विभागों में बँट जा सकते हैं—(१) प्रथम युग—ख्रिस्त-पूर्व चार सौ से छह सौ तक के बाद एक सौ वर्ष तक ( 400 B. C. to 100 A. D ), (२) मध्ययुग—ख्रिस्त के बाद एक सौ से पाँच सौ वर्ष तक ( 100 A. C. to 500 A. D ), (३) शेष युग—ख्रिस्तीय पाँच सौ से एक हजार वर्ष तक ( 500 A. D. to 1000 A. D. )।

### प्रथम युग ( ख्रिस्त-पूर्व ४०० से ख्रिस्त के बाद १०० )

- ( क ) हीनयान बौद्धों के त्रिपिटक महावश और जातक-प्रभृति ग्रन्थों की पाली भाषा ।
- ( ख ) पैशाची और चूलिकापैशाची ।
- ( ग ) जैन अंग-ग्रन्थों की अर्धमागधी भाषा ।
- ( घ ) अंग ग्रन्थ-भिन्न प्राचीन सूत्रों की और पउम-चरिअ आदि प्राचीन ग्रन्थों की जैन महाराष्ट्री भाषा ।
- ( ङ ) अशोक-शिलालेखों की एवं परवर्ति-काल के प्राचीन शिलालेखों की भाषा ।
- ( च ) अश्वघोष के नाटकों की भाषा ।

### मध्ययुग ( ख्रिस्तीय १०० से ५०० )

- ( क ) त्रिवेन्द्रम् से प्रकाशित भास-रचित कहे जाते नाटकों की और वाद के कालिदास-प्रभृति के नाटकों की शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री भाषाएँ ।
- ( ख ) सेतुबन्ध, गाथासप्तशती आदि काव्यों की महाराष्ट्री भाषा ।
- ( ग ) प्राकृत व्याकरणों में जिनके लक्षण और उदाहरण पाये जाते हैं वे महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिकापैशाची भाषाएँ ।
- ( घ ) दिगम्बर जैन ग्रन्थों की शौरसेनी और परवर्ति-काल के श्वेताम्बर ग्रन्थों की जैन महाराष्ट्री भाषा ।
- ( ङ ) चड के व्याकरण में निर्दिष्ट और विक्रमोर्वशी में प्रयुक्त अपभ्रंश भाषा ।

### शेष युग ( ख्रिस्तीय ५०० से १००० वर्ष )

भिन्न-भिन्न प्रदेशों की परवर्ती काल की अपभ्रंश भाषाएँ ।

अब इन तीन युगों में विभक्त प्रत्येक भाषा का लक्षण और विशेष विवरण, उक्त क्रम के अनुसार (१) पालि, (२) पैशाची, (३) चूलिकापैशाची, (४) अर्धमागधी, (५) जैन महाराष्ट्री, (६) अशोकलिपि, (७) शौरसेनी, (८) मागधी, (९) महाराष्ट्री, (१०) अपभ्रंश इन शीर्षकों में क्रमशः दिया जाता है ।

### ( १ ) पालि

हीनयान बौद्धों के धर्म-ग्रन्थों की भाषा को पालि कहते हैं । कई विद्वानों का अनुमान है कि पालि शब्द 'पङ्क्ति' पर से बना है<sup>१</sup> । 'पङ्क्ति' शब्द का अर्थ है 'श्रेणी' । प्राचीन बौद्ध लेखक अपने ग्रन्थ में धर्म-शास्त्र की वचन-पङ्क्ति को उद्धृत करते समय इसी पालि शब्द का प्रयोग करते थे, इससे बाद के समय में बौद्ध धर्म-शास्त्रों की भाषा का ही नाम पालि हुआ । अन्य विद्वानों का मत है कि पालि शब्द 'पङ्क्ति' पर से नहीं, परन्तु 'पङ्क्ति' पर से हुआ निर्देश प्रीर व्युत्पत्ति है । 'पङ्क्ति' शब्द असल में संस्कृत नहीं परन्तु प्राकृत है, यद्यपि अन्य अनेक प्राकृत शब्दों की तरह यह भी पीछे से संस्कृत में लिया गया है । 'पङ्क्ति' शब्द जैनों के प्राचीन अंग ग्रन्थों में भी पाया जाता है<sup>२</sup> । 'पङ्क्ति' शब्द का अर्थ है ग्राम या गाँव । 'पालि' का अर्थ गाँवों में बोली जाती भाषा—ग्राम्य भाषा—होता है । 'पङ्क्ति' पर से 'पालि' होने की कल्पना जितनी क्लेशसाध्य है 'पङ्क्ति' पर से 'पालि' होना उतना ही सहज-बोध्य है । इससे हमें पिट्ठला मन ही अधिक संगत मालूम होता है । 'पालि' केवल ग्रामों की ही भाषा थी, इससे उमका यह नाम हुआ है यह बात नहीं है । बालक प्रदेश-विशेष के ग्रामों की तरह शहरों के भी जन-साधारण की यह भाषा थी, परन्तु संस्कृत के अनन्य-भक्त

१ "पङ्क्ति = पक्ति = पति = पट्टि = पटि = पलि = पल्लि = पालि; अथवा पङ्क्ति = पत्ति = पट्टि = पङ्क्ति = पालि" (पालिप्रकाश, प्रवेशक, पृष्ठ ६) ।

२ "सैतुस्सि तन्तिपन्तीमु नालियं पालि कथ्यते" (अभिधानप्रदीपिका ६६६) ।

३ देखो, विपाकश्रुत (पत्र ३८, ३९) ।



ब्राह्मणों की ही ओर से इस भाषा की तरफ अपनी स्वाभाविक घृणा<sup>1</sup> को व्यक्त करने के लिए इसका यह नाम दिया जाना और अधिक प्रसिद्ध हो जाने के कारण पीछे से बौद्ध विद्वानों का भी मागधी की जगह इस शब्द का प्रयोग करना आश्चर्यजनक नहीं जान पड़ता ।

उक्त प्राकृत भाषा-समूह में पालि भाषा के साथ वैदिक संस्कृत का अधिक सादृश्य देखा जाता है । इसी कारण से द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं में पालि भाषा सर्वापेक्षा प्राचीन मालूम पड़ती है ।

पालि भाषा के उत्पत्ति-स्थान के बारे में विद्वानों का मत-भेद है । बौद्ध लोग इसी भाषा को मागधी कहते हैं और उनके मत से इस भाषा का उत्पत्ति-स्थान मगध देश है । परन्तु इस भाषा का मागधी प्राकृत के साथ कोई सादृश्य नहीं है । डॉ. कोनो ( Dr Konow ) और सर ग्रियर्सन ने इस भाषा का पैशाची भाषा के साथ सादृश्य देखकर पैशाची भाषा जिस देश में प्रचलित थी उसी देश को इसका उत्पत्ति-स्थान बताया है, यद्यपि पैशाची भाषा के उत्पत्ति-स्थान के विषय में इन दोनों विद्वानों का मतैक्य नहीं है । डॉ. कोनो के मत में पैशाची भाषा का उत्पत्ति-स्थान विन्ध्याचल का दक्षिण प्रदेश है और सर ग्रियर्सन का मत यह है कि 'इसका उत्पत्ति-स्थान भारतवर्ष का उत्तर-पश्चिम प्रान्त है, वहाँ उत्पन्न होने के बाद समय है कि कोंकण-प्रदेश-पर्यन्त इसका विस्तार हुआ हो और वहाँ इससे पालि भाषा की उत्पत्ति हुई हो ।' परन्तु पालि भाषा अशोक के गुजरात-प्रदेश-स्थित गिरनार के शिलालेख के अनुरूप होने के कारण यह मगध में नहीं, किन्तु 'भारतवर्ष के पश्चिम प्रान्त में उत्पन्न हुई है और वहाँ से सिंहल देश में ले जाई गई है' यही मत विशेष सगत प्रतीत होता है, क्योंकि निम्नोक्त उदाहरणों से पालिभाषा का गिरनार-शिलालेख के साथ सादृश्य और पूर्व-प्रान्त-स्थित धौलि (संडगिरि) शिलालेख के साथ पार्यन्त्य देखा जाता है—

संस्कृत	पालि	गिरनारशिला०	धौलिशिला०
राज्ञ.	राजिनो, रब्बो	राणो	लजिने
कृतम्	कत	कत	कडे

इस विषय में डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी का कहना है कि "बुद्धदेव<sup>2</sup> के समस्त उपदेश मागधी भाषासे वाद के समय में मध्यदेश (Doab) की शौरसेनी प्राकृत में अनुवादित हुए थे और वे ही ख्रिस्त-पूर्व प्रायः द्वां सौ वर्ष से पालि-भाषा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं ।" किन्तु सच तो यह है कि पालि भाषा का शौरसेनी और मागधी की अपेक्षा पैशाची के साथ ही अधिक सादृश्य है जो निम्नोक्त उदाहरणों से स्पष्ट जाना जाता है ।

संस्कृत	पालि	पैशाची	शौरसेनी	मागधी
क (लोक)	क (लोक)	क (लोक)	० (लोग)	० (लोग)
ग (नग)	ग (नग)	ग (नग)	० (एग)	० (एग)
च (सची)	च (सची)	च (सची)	० (सई)	० (शई)
ज (रजत)	ज (रजत)	ज (रजत)	० (रमद)	० (लमद)
कत (कृत)	त (कत)	त (कत)	द (कद)	ड (कड)
र (कर)	र (कर)	र (कर)	र (कर)	ल (कल)

१. "लोकान्त कृतकं च प्राकृतं स्नेच्छभाषितम् ।

न श्रोतव्यं द्विजैर्नैतदधो नयति तद् द्विजम्" (गुरुपुराण, पूर्वखण्ड ६८, १७) ।

२. The Origin and Development of the Bengalee Language, Vol. I, page 57.

३. इन उदाहरणों में प्रथम वह अक्षर दिया गया है जिसका उस उस भाषा के नीचे दिए गए अक्षरों में परिवर्तन होता है और अक्षर के बाद ब्रान्केट में उसी अक्षरवाला शब्द स्पष्टता के लिए दिया गया है ।

\* स्वर वर्णों के मध्यवर्ती असंगुक्त वर्ण ।

संस्कृत	पालि	पैशाची	शौरसेनी	मागधी
श ( वश )	स ( वस )	स ( वस )	स ( वस )	श ( वश )
प ( मेष )	स ( मेष )	स ( मेष )	स ( मेष )	श ( मेष )
स ( सारस )	स ( सारस )	स ( सारस )	स ( सारस )	श ( शालश )
न ( वचन )	न ( वचन )	न ( वचन )	ण ( वम्रण )	ण ( वम्रण )
ट्ट ( पट्ट )	ट्ट ( पट्ट )	ट्ट ( पट्ट )	ट्ट ( पट्ट )	स्ट ( पस्ट )
थ्य ( भ्रयं )	त्य ( भ्रत्य )	त्य ( भ्रत्य )	त्य ( भ्रत्य )	स्त ( भ्रस्त )
स् ( वृत्त )	ओ ( रक्खो )	ओ ( रक्खो )	ओ ( रक्खो )	ए ( लुक्खे )

पालि भाषा की उत्पत्ति का समय ख्रिस्त के पूर्व पष्ठ शताब्दी कहा जाता है, किन्तु वह काल बुद्धदेव की साम-  
ज्यत्ति-समय  
उत्पन्न हुई थी ।  
सामयिक कथ्य मागधी भाषा का हो सकता है । पालि कथ्य भाषा नहीं, परन्तु बौद्ध धर्म-साहित्य  
की भाषा है । संभवतः यह भाषा ख्रिस्त के पूर्व चतुर्थ या पञ्चम शताब्दी में पश्चिम भारत में

इस पालि-भाषा से आधुनिक सिन्धली भाषा की उत्पत्ति हुई है ।

प्राकृत शब्द से साधारणतः पालि-भिन्न अन्य भाषाएँ ही समझी जाती हैं । इससे, और पालि भाषा के अनेक  
स्वतन्त्र कोष होने से, प्रस्तुत कोष में पालि भाषा के शब्दों को स्थान नहीं दिया गया है । इसलिए पालि भाषा की विशेष  
आलोचना करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है ।

## ( २ ) पैशाची

गुणाढ्य ने बृहत्कथा पैशाची भाषा में लिखी थी, जो लुप्त हो गई है । इस समय पैशाची भाषा के उदाहरण  
निर्देशन  
प्राकृतप्रकाश, आचार्य हेमचन्द्र का प्राकृतव्याकरण, पद्मभाषाचन्द्रिका, प्राकृत-सर्वस्व और संक्षिप्तसार  
आदि प्राकृत-व्याकरणों में आचार्य हेमचन्द्र के कुमारपाल-चरित तथा काव्यानुशासन में, मोहराज-  
पराजय नामक नाटक में और दो-एक पद्मभाषास्तोत्रों में मिलने हैं ।

भरत के नाट्यशास्त्र में पैशाची नाम का उल्लेख देखने में नहीं आता है, परन्तु इसके परवर्ती रुद्रट, केशव-  
मिश्र आदि संस्कृत के आलंकारिकों ने इसका उल्लेख किया है । वाग्भट ने इस भाषा को 'भूतभाषित' के नाम से  
अभिहित की है ।

वाग्भट तथा केशवमिश्र ने क्रम से भूत और पिशाच-प्रभृति पात्रों के लिए और पद्मभाषा-चन्द्रिकाकार ने  
विनियोग  
राक्षस, पिशाच और नीच पात्रों के लिए इसका विनियोग वतलाया है ।

१ पुलिग में प्रथमा के एक वचन का प्रत्यय ।

२ आचार्य उद्योतन की कुवलय माला में, दण्डो के काव्यादर्श में, बाण के हर्षचरित में, धनञ्जय के दशरत्नक में, सुबन्धु की  
वासवदत्ता में और श्रन्याय प्राकृत-संस्कृत ग्रंथों में इसका उल्लेख पाया जाता है । क्षेमेन्द्रकृत बृहत्कथामञ्जरी और सोमदेवभट्ट-  
प्रणीत कथासरित्सागर इन्हीं बृहत्कथा का संस्कृत अनुवाद है । इस बृहत्कथा के ही भिन्न-भिन्न अंशों के आधार पर बाण, श्रीहर्ष,  
भवभूति आदि संस्कृत के महाकवियों की कादम्बरी, रत्नावली, मालतीमाधव-प्रभृति अनेक संस्कृत ग्रंथों की रचना की गई है ।

३. पृष्ठ २२६, २३३ ।

४ काव्यालंकार २, १२ ।

५. 'संस्कृतं प्राकृतं चैव पैशाची मागधी तथा' (अलङ्कारशेखर, पृष्ठ ५) ।

६. 'संस्कृतं प्राकृतं तस्यापत्रं शो भूतभाषितम्' (वाग्भटालङ्कार २, १) ।

७ 'यद् भूतैरुच्यते किञ्चित् तद्भीतिकर्मितं स्मृतम्' (वाग्भटालङ्कार २, ३) ।

८. 'पैशाचीं तु पिशाचाद्या प्राहु' (अलङ्कारशेखर, पृष्ठ ५) ।

९ रत्न पिशाचनीचेपु पैशाचीद्वितयं भवेत् ॥३५॥' (पद्मभाषा-चन्द्रिका, पृष्ठ ३) ।

यह भाषाचन्द्रिकाकार पिशाच-देशों की भाषा को ही पेशाची कहते हैं और पिशाच-देशों के निर्देश के लिए नीचे उत्पत्ति-स्थान के श्लोकों को उद्धृत करते हैं —

‘पारुष्यवेक्यवाहीकम्हनेपालकुन्तला ।  
सुधेप्यमोजगान्वारहेवकश्रोजनास्तया ।  
एते पिशाचदेशाः स्युः’

मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व में प्राकृतचन्द्रिका के

‘काञ्चीदेशीयपाण्ड्यो च पाञ्चाल गौड मागधम् ।  
त्राचहं दक्षिणार्थ्यं च शौरसेन च कैकयम् ॥  
शावरं द्राविडं चैव एकादश पिशाचजा ।

इस वचन को उद्धृत कर ग्यारह प्रकार की पेशाची का उल्लेख किया है; परन्तु बाद में हम मन का गूँथन करके सिद्धान्त रूप से इन तीन प्रकार की पेशाची का ग्रहण किया है, यथा—‘त्रैत्रयं शौरसेन च पाञ्चालमिति च त्रिधा पेशाच्यः’ ।

लक्ष्मीधर और मार्कण्डेय ने जिन प्राचीन वचनों का उल्लेख किया है उनमें पाण्ड्य, काञ्ची और कैकय आदि प्रदेश एक दूसरे से अतिदूरवर्ती प्रांतों में अवस्थित हैं। इतने दूरवर्ती प्रदेश एकदेशीय भाषा के उत्पत्ति-स्थान कैसे हो सकते हैं? यदि पेशाची भाषा किसी प्रदेश की भाषा न हो कर भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहनेवाली किसी जाति-विशेष की भाषा हो तो इसका संभव इस तरह हो भी सकता है कि पूर्वकाल में किसी एक देश-विशेष में रहनेवाली पिशाच-प्राय मनुष्य-जाति बाद में भिन्न-भिन्न देशों में फैलती हुई वहाँ अपनी भाषा को ले गई हो। मार्कण्डेय-निर्दिष्ट तीन प्रकार की पेशाची परस्पर सनिहित प्रदेशों की भाषा है, इससे खूब ही संभव है कि यह पहले केकय देश में उत्पन्न हुई हो और बाद में उसी के समीपस्थ शूरसेन और पाञ्चाल तक फैल गई हो। मार्कण्डेय ने शौरसेन-पेशाची और पाञ्चाल-पेशाची की प्रकृति जो कैकय-पेशाची कही है इसका मतलब भी यही हो सकता है। सर प्रियर्सन के मत में पिशाच-भाषा-भाषी लोगों का आदिम वास-स्थान उत्तर-पश्चिम पाञ्चाल अथवा अफगानिस्तान का प्रान्त प्रदेश है और बाद में वहाँ से ही मभवत इसका अन्य देशों में विस्तार हुआ है। किन्तु डॉ. हॉर्नल का इस विषय में और ही मत है। उनका कहना यह है कि अनार्य जाति के लोग आर्य-जाति की भाषा का जिस विकृत रूप में उच्चारण करते थे वही पेशाची भाषा है, अर्थात् उनके मत से पेशाची भाषा न तो किसी देश-विशेष की भाषा है और न वह वास्तव में भिन्न भाषा ही है। हमें सर प्रियर्सन का मत ही प्रामाणिक प्रतीत होता है जो मार्कण्डेय के मत के साथ अनेकानेक मिलता-जुलता है।

वररुचि ने शौरसेनी प्राकृत को ही पेशाची भाषा का मूल कहा है<sup>१</sup>। मार्कण्डेय ने पेशाची भाषा को कैकय, शौरसेन और पाञ्चाल इन तीन भेदों में विभक्त कर संस्कृत और शौरसेनी उभय को कैकय-पेशाची का और कैकय-पेशाची को शौरसेन-पेशाची का मूल बतलाया है। पाञ्चाल पेशाची के मूल का उन्होंने निर्देश ही नहीं किया है, किन्तु उन्होंने इसके जो वेरो (केलि) और मदिल (मन्दिरम्) ये दो उदाहरण दिये हैं इससे मालूम होता है कि इस पाञ्चाल-पेशाची का कैकय-पेशाची से रकार और लकार के व्यत्यय के अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं है, सुतरां शौरसेन-पेशाची की तरह पाञ्चाल-पेशाची की प्रकृति भी उनके मत से कैकय-पेशाची ही हो सकती है। यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि मार्कण्डेय ने शौरसेन-पेशाची के जो लक्षण दिए हैं उन पर से शौरसेन-पेशाची का

१. वर्तमान मद्रास प्रीर क्वाड्रुमारी के भासपास के प्रदेश का नाम पारुष्य, पञ्चनद प्रदेश का नाम केकय, अफगानिस्तान के वर्तमान वाखनगन्वाले प्रदेश का नाम वाहीक, दक्षिण भारत के पश्चिम उपकूल का नाम सद्य, नर्मदा के उत्पत्ति-स्थान के निकटवर्ती देश का नाम कुन्तल, वर्तमान काठल प्रीर पेशावरवाले प्रदेश का नाम गान्वार, हिमालय के निम्न-वर्ती पार्वत्य प्रदेश-विशेष का नाम हैव और दक्षिण महाराष्ट्र के पार्वत्य अञ्चल का नाम कन्नोजन है।

२ “प्रकृति शौरसेनी” (प्राकृतप्रकाश १०, २)।

३ “सस्य श”, “रय लो भवेत्”, “चवगंम्योपरिष्ठाद् य”, “हृत्वाविषु कडादय”, “क्षस्य च्छ”, “स्वाविकृते पृस्य शत”, “तत्पयो श ऋष्वं म्यात्”, “अत सोरो (?रे) त्” (प्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ १२६)।

शौरसेनी भाषा के साथ कोई भी सवन्व प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कैंकय-पैशाची के साथ शौरसेन-पैशाची के जो भेद उन्होंने बतलाए हैं वे मागधी भाषा के ही अनुरूप हैं, न कि शौरसेनी के। इससे इमको शौरसेन-पैशाची न कह कर मागध-पैशाची कहना ही संगत जान पड़ता है।

प्राकृत वैयाकरणों के मत से पैशाची भाषा का मूल शौरसेनी अथवा सस्कृत भाषा है, किन्तु हम पहले यह भलीभाँति दिखा चुके हैं कि कोई भी प्रादेशिक कथ्य भाषा, सस्कृत अथवा अन्य प्रादेशिक भाषा से उत्पन्न नहीं है, परन्तु वह वही कथ्य अथवा प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई है जो वैदिक युग में उस प्रदेश में प्रचलित थी। इस लिए पैशाची भाषा का भी मूल सस्कृत या शौरसेनी नहीं, किन्तु वह प्राकृत भाषा ही है जो वैदिक युग में भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम प्रान्त की या अफगानिस्थान के पूर्व प्रान्त-वर्ती प्रदेश की कथ्य भाषा थी।

प्रथम युग की पैशाची भाषा का कोई निदर्शन साहित्य में नहीं मिलता है। गुणाढ्य की बृहत्कथा सभवत इसी प्रथम युग की पैशाचा भाषा में रची गई थी, किन्तु वह आजकल उपलब्ध नहीं है। इस समय हम व्याकरण, नाटक और काव्य में पैशाची भाषा के जो निदर्शन पाते हैं वह मध्ययुग की पैशाची भाषा का है। मध्ययुग की यह पैशाची भाषा ख्रिस्त की द्वितीय शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी पर्यन्त प्रचलित थी।

पैशाची भाषा का शौरसेनी भाषा के साथ जित-जित अंश में भेद है वह सामान्य रूप से नीचे दिया जाता है। इसके सिवा अन्य सभी अंशों में वह शौरसेनी के ही समान है। इससे इसके वाक्य के लक्षण शौरसेनी के प्रकरण से जाने जा सकते हैं।

#### वर्ण-भेद

- १ ङ, न्य और एय के स्थान में ञ होता है, यथा—त्रा = पत्रा, ज्ञान = ञ्ञान, कन्यका = कञ्जका, अभिमन्यु = अभिमञ्जु, पुण्य = पुञ्ज।
- २ ए और न के स्थान में न होता है, जैसे—गुण = गुन, कनक = कनक।
- ३ त और द की जगह ठ होता है, जैसे—भगवती = भगवती, शन = सत, मदन = मतन, देव = तेव।
- ४ लकार ल में बदलता है, यथा—सील = सीळ, कुल = कुळ।
- ५ ट्ट की जगह ट्ट और तु होता है, जैसे—कुटुम्बक, कुटुम्बक, कुतुम्बक।
- ६ महाराष्ट्री के लक्षण में असयुक्त-व्यञ्जन परिवर्तन के १ से १३, १५ और १६ अंकवाले जो नियम बतलाए गए हैं वे शौरसेनी भाषा में लागू होते हैं, किन्तु पैशाची में नहीं, यथा—लोक = लोळ, शाखा = साखा, भट = भळ, मठ = मळ, गरुड = गरुळ, प्रतिभास = पतिभास, कनक = कनळ, शपथ = सपथ, रेफ = रेफ, शवल = सवळ, यशस् = यस, करणीय = करणीय, अगार = इगार, दाह = दाह।
- ७ यादृश आदि शब्दों का द परिणत होता है त में, यथा—यादृश = यातिस, सदृश = सतिस।

#### नाम-विभक्ति

- १ अकारान्त शब्द की पञ्चमी का एकनचन आतो और आतु होता है, जैसे—जिनातो, जिनातु।

#### आख्यात

- १ शौरसेनी के दि और दे प्रत्ययों की जगह ति और ते होता है, यथा—गच्छति, गच्छते, रमति, रमते।
- २ भावष्य-काल में स्ति के बदले एष्य होता है, जैसे—भविष्यति = हुवेष्य।
- ३ भाव और कर्म में इम् तथा इज के स्थान में इष्य होता है, यथा—पठ्यते = पठिष्यते, हसिष्यते।

#### कृदन्त

- १ त्वा प्रत्यय के स्थान में कहीं तून और कही त्वून आर दून होते हैं, यथा पठित्वा = पठितून, गत्वा = गन्तून, नष्ट्वा = नष्टून, नद्घून, तष्ट्वा = तत्थून, तद्घून।

## (३) चूलिकापैशाची

चूलिकापैशाची भाषा के लक्षण आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में और पंडित लक्ष्मीधर ने अपनी पृथुभाषाचन्द्रिका में दिए हैं। आचार्य हेमचन्द्र के कुमारपालचरित और वाचनानुशासन में इस भाषा के निदर्शन पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त हमीरमदमर्दन नामक नाटक में और दो-एक छोटो-छोटे पृथुभाषास्तोत्रों में भी इसके कुछ नमूने देखने में आते हैं।

प्राकृतलक्षण, प्राकृतप्रकाश, सक्षिप्तसार और प्राकृतमर्दन्य वगैरह प्राकृत-व्याकरणों में और प्राकृत के अलंकार ग्रन्थों में चूलिकापैशाची का कोई उल्लेख नहीं है, अथवा आचार्य हेमचन्द्र ने और पंडित लक्ष्मीधर ने चूलिकापैशाची के जो लक्षण दिए हैं वे चड, वररचि, क्रमदीश्वर और मार्कण्डेय-प्रभृति व्याकरणों ने पैशाची भाषा के लक्षणों में ही अन्तर्गत किए हैं।

इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि उक्त व्याकरण-गण चूलिकापैशाची को पैशाची भाषा के अन्तर्भूत पैशाची में इसका ही मानते थे, स्वतन्त्र भाषा के रूप में नहीं। आचार्य हेमचन्द्र भी अपने अभिव्यक्ति-विन्तामणि नामक संस्कृत कोष ग्रन्थ के "भाषा पठ सस्कृतादिका (काण्ड २, १६६) इन वचन की "सस्कृत-प्राकृत-मागधी-शौरसेनी-पैशाच्यपत्र-शलकणा." यह व्याख्या करते हुए चूलिकापैशाची का अलग उल्लेख नहीं करते। इनसे मालूम पड़ता है कि वे भी चूलिकापैशाची को पैशाची का ही एक भेद मानते हैं। हमारा भी यही मत है। इससे यहाँ पर इस विषय में पैशाची भाषा के अन्तरोक्त विवरण से कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। निरफ आचार्य हेमचन्द्र ने और उन्हीं का पूरा अनुसरण कर पंडित लक्ष्मीधर ने इस भाषा के जो लक्षण दिए हैं वे नीचे उद्धृत किए जाते हैं। इनके निवा सभी अंशों में इस भाषा का पैशाची से कोई पार्थक्य नहीं है।

## लक्षण

- वर्ग के तृतीय और चतुर्थ अक्षरों के स्थान में क्रमशः प्रथम और द्वितीय होता है<sup>१</sup>। यथा—नगर = नकर, व्यात्र = वक्र, राजा = राचा, निर्भर = निच्छर, तडाग = तटाक, ठका = ठका, मदन = मतन, मधुर = मधुर, बालक = पालक, भगवती = फकवती।
- र के स्थान में वैकल्पिक ल होता है, यथा—रु = लु, रुह।

## (४) अर्धमागधी

भगवान् महावीर अपना धर्मोपदेश अर्धमागधी भाषा में देते थे<sup>२</sup>। इसी उपदेश के अनुसार उनके समसामयिक गणधर श्री सुधर्मस्वामी ने अर्धमागधी भाषा में ही आचाराङ्ग-प्रभृति सूत्र-ग्रन्थों की रचना की थी<sup>३</sup>। ये ग्रन्थ उस समय लिखे नहीं गए थे, परन्तु शिष्य परम्परा से कण्ठ-पाठ द्वारा संरक्षित होते थे। दिगम्बर जनों के मत से ये समस्त ग्रन्थ विलुप्त हो गए हैं, परन्तु ज्वेताम्बर जैन दिगम्बरो के इस मन्तव्य से सहमत नहीं हैं। ज्वेताम्बरों के मत के अनुसार ये सूत्र-ग्रन्थ महावीर-निर्माण के बाद ९८० अर्थात् ख्रिस्ताब्द ४५४ में बलभी (वर्तमान ब्या, काठियावाड़) में श्रीदेवद्विगणि क्षमाश्रमण ने वर्तमान आकार में लिपिबद्ध किए। उस समय लिखे जाने पर भी इन ग्रन्थों की भाषा प्राचीन है। इसका एक कारण यह है कि जैसे ब्राह्मणों ने कण्ठ-पाठ-द्वारा बहु-शताब्दी-पर्यन्त वेदों की रक्षा की थी वैसे ही जैन मुनियों ने भी अपनी शिष्य-परम्परा से मुख-पाठ द्वारा करीब एक हजार वर्ष तक अपने इन पवित्र ग्रन्थों को बचा रखा था। दूसरा यह है कि जैन धर्म में सूत्र-पाठों के शुद्ध उच्चारण के लिए खूब जोर दिया गया है, यहाँ तक कि मात्रा या अक्षर के भी अशुद्ध या विपरीत उच्चारण करने में दोष माना गया है। तिस पर भी सूत्र-ग्रन्थों की भाषा का सूक्ष्म निरीक्षण करने से इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भगवान् महावीर के समय की अर्ध-

१ ग्रन्थ व्याकरणों के मत से यह नियम शब्द के आदि के अक्षरों में लागू नहीं होता है (हे० प्रा० ४, ३२७)।

२ "भगवं च ए अद्दमाहीए भासाए धम्ममाइक्कवइ" (समवायाङ्ग सूत्र, पत्र ६०)।

"तए एं समणे भगवं महावीरे कृगिअसस रएणे निभिसारपुत्तत्त ... अद्दमागहाए भासाए भासाइ। सा वि य ए अद्दमागहा भासा तसि सव्वेसि भारियमएरियाए अएणो सभासाए परिणामेणं परिणामइ" (सौपपातिक सूत्र)।

३ 'अत्य भासइ अरिहा, सुत्त गयति गएहए निच्छ' (आवश्यकनिर्मुक्ति)।

मागधी भाषा के इन ग्रन्थों में, अज्ञातभाव से ही क्यों न हो, भाषा-विषयक परिवर्तन अवश्य हुआ है। वह परिवर्तन होना असम्भव भी नहीं है, क्योंकि ये सूत्र-ग्रन्थ वेदों की तरह शब्द-प्रधान नहीं, किन्तु अर्थ-प्रधान हैं। इतना ही नहीं, वल्कि ये ग्रन्थ जन-साधारण के बोध के लिये ही उस समय की कथ्य भाषा में रचे गये थे<sup>१</sup> और कथ्य भाषा में समय गुजरने के साथ-साथ अवश्य होनेवाले परिवर्तन का प्रभाव, कण्ठ-पाठ के रूप में स्थित इन सूत्रों की भाषा पर पड़ना, अन्ततः उस-उस समय के लोगों को समझाने के उद्देश्य से भी, आश्चर्यकर नहीं है। इसके सिवा, भाषा-परिवर्तन का यह भी एक मुख्य कारण माना जा सकता है कि भगवान् महावीर के निर्वाण से करीब दो सौ वर्ष के बाद (ख्रिस्त-पूर्व ३१०) चन्द्रगुप्त के राजत्व-काल में मगध देश में बारह वर्षों का सुदीर्घ अकाल पड़ने पर साधु लोगों को निर्वाह के लिए समुद्र-तीर-वर्ती प्रदेश (दक्षिण देश) में जाना पड़ा था। उस समय वे सूत्र-ग्रन्थों का परिशीलन न कर सकने के कारण उन्हें भूल से गए थे। इससे अकाल के बाद पाटलिपुत्र में सब ने एकत्रित होकर जिस-जिस साधु को जिस-जिस अङ्ग-ग्रन्थ का जो-जो अंश जिस-जिस आकार में याद रह गया था, उस-उस से उस-उस अङ्ग-ग्रन्थ के उस-उस अंश को उस-उस रूप में प्राप्त कर ग्यारह अङ्ग-ग्रन्थों का सकलन किया<sup>२</sup>। इस घटना से जैसे अङ्ग-ग्रन्थों की भाषा के परिवर्तन का कारण समझ में आ सकता है, वैसे इन ग्रन्थों की अर्धमागधी भाषा में, मगध के पार्श्व-वर्ती प्रदेशों की भाषाओं की तुलना में दूरवर्ती महाराष्ट्र-प्रदेश की भाषा का जो अधिक साम्य देखा जाता है उसके कारण का भी पता चलता है। जब ऐतिहासिक प्रमाणों से यह बात सिद्ध है कि दक्षिण प्रदेश में प्राचीन काल में जैन धर्म का अच्छी तरह प्रचार और प्रभाव हुआ था तब यह अनुमान करना अयुक्त नहीं है कि उक्त दीर्घकालिक अकाल के समय साधु लोग समुद्र-तीर-वर्ती इस दक्षिण देश में ही गए थे और वहाँ उन्होंने उपदेश-द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया था। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उक्त साधुओं को दक्षिण प्रदेश में उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसका अच्छी तरह ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके बिना उपदेश-द्वारा धर्म-प्रचार का कार्य वे कर ही नहीं सकते थे। इससे यह असम्भव नहीं है कि उन साधुओं की इस नव-परिचित भाषा का प्रभाव, उनके कण्ठ-स्थित सूत्रों की भाषा पर भी पड़ा था। इसी प्रभाव को लेकर उनमें से कई एक साधु-लोग पाटलिपुत्र के उक्त समेलन में उपस्थित हुए थे, जिससे अङ्गों के पुनः सकलन में उस प्रभाव ने न्यूनाधिक अंश में स्थान पाया था।

उक्त घटना से करीब आठ सौ वर्षों के बाद बलमी (सौराष्ट्र) और मथुरा में जैन ग्रन्थों को लिपि-वद्ध करने के लिए मुनि-समेलन किए गए थे, क्योंकि इन सूत्र-ग्रन्थों का और उस समय तक अन्य जो जैन ग्रन्थ रचे गए थे उनका भी क्रमशः विस्मरण हो चला था और यदि वही दशा कुछ अधिक समय तक चालू रहती तो समग्र जैन शास्त्रों के लोप हो जाने का डर था जो वास्तव में सत्य था। संभवतः इस समय तक जैन साधुओं का भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में विस्तार हो चुका था और इन समस्त प्रदेशों से अल्पाधिक सख्या में आकर साधु लोगों ने इन समेलनों में योग-दान किया था। भिन्न-भिन्न प्रदेशों से आगत इन मुनियों से जो ग्रन्थ अथवा ग्रन्थ के अंश जिस रूप में प्राप्त हुआ उसी रूप में वह लिपि-वद्ध किया गया। उक्त मुनियों के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में विचर-काल तक विचरने के कारण उन प्रदेशों को भिन्न-भिन्न भाषाओं का,

१ "मुत्तूण दिट्ठिवायं कालियट्कालियगसिद्धत ।"

धीवालवायणत्थ पाययमुइय जिणवरोहि ॥'

(आचारदिनकर में श्रीवर्धमानसूरि द्वारा उद्धृत की हुई प्राचीन गाथा) ।

'बालजीमन्दमूर्खारणा नृणा चारित्रकाङ्क्षणाम् ।

अनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञैः सिद्धान्तं प्राकृतं कृतं ॥'

(हरिभद्रसूरि की दशवैकालिक टीका में श्रीर हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में उद्धृत प्राचीन श्लोक) ।

२. देखो Annual Report of Asiatic Society, Bengal, 1898 में डॉ. हार्नलि का लेख ।

३ "इत्थं तस्मिन् दुष्काले कराले कालरात्रिवत् । निर्वाहार्थं साधुसङ्घस्तोर नीरनिवेश्यौ ॥५५॥

अग्रुण्यमानं तु तदा साधूना विस्मृतं श्रुतम् । अनभ्यसनतो नश्यत्वधीत धीमतामपि ॥५६॥

सधोऽथ पाटलीपुत्रे दुष्कालान्तेऽखिलोऽमिलत् । यदङ्गाव्ययनोद्देशाद्यासीद् यस्य तदावदे ॥५७॥

ततश्चैकादशाङ्गानि श्रीसंघोऽभेलयत् तदा । दृष्टिवादनिमित्तं च तस्यै किञ्चिद् विचिन्तयत् ॥५८॥

नेपालदेशमार्गस्थं भद्रवाहु च पूर्विणाम् । ज्ञात्वा संघं समाह्वानु ततः प्रैवीणुनिद्वयम् ॥५९॥

उच्चारणों का और विभिन्न प्राकृत भाषाओं के व्याकरणों का कुल-न कुल अलक्षित प्रभाव उनके कण्ठ स्थित घर्म-ग्रन्थों की भाषा पर भी पडना अनिवार्य था। वही कारण है कि अग-ग्रन्थों में, एक ही अङ्ग ग्रन्थ के भिन्न भिन्न अंगों में और कहीं-कहीं तो एक ही अग-ग्रन्थ के एक ही वाक्य में परस्पर भाषा-भेद नजर आता है। संभवतः भिन्न-भिन्न प्रदेशों की भाषाओं के प्रभाव से युक्त इसी भाषा-भेद को लक्ष्य में लेकर त्रिन्त की नप्तम गताच्ची के ग्रन्थकार श्रीजिनदामगणि ने अपनी निशीथ-चूर्णि में अर्धमागधी भाषा का "भट्टासदेनीनासानिययं वा प्रदमागह" यह वैकल्पिक लक्षण किया है। भाषा-परिवर्तन के उक्त अनेक प्रबल कारण उपस्थित होने पर भी अग-ग्रन्थों की अर्धमागधी भाषा में, पाटलिपुत्र के समेलन के बाद से, आमूल वा अधिक परिवर्तन न होकर उनके बदले जो सूक्ष्म वा अल्प ही भाषा-भेद हुआ है और संकड़ों की तादाद में उसके प्राचीन रूप अपने असल आकार में जो सरक्षित रह सके हैं उनका श्रेय सूत्रों के अशुद्ध उच्चारण आदि के लिए प्रदर्शित पाप-चन्व के उम धार्मिक नियम को है जो संभवतः पाटलीपुत्र के समेलन के बाद निर्मित या दृढ़ किया गया था।

यहाँ पर प्रसंग-वश इस बात का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि 'समवायाग सूत्र में निर्दिष्ट अग-ग्रन्थ-सन्वन्धी विषय और परिमाण का वर्तमान अङ्ग-ग्रन्थों में कहीं-कहीं जो थोड़ा-बहुत क्रमग विम्वार और हास पाया जाया है और अङ्ग-ग्रन्थों में ही बाद में उपाङ्ग-ग्रन्थों का और बाद की घटनाओं का जो उल्लेख दृष्टिगोचर होता है उनका समाधान भी हमको उक्त सम्मेलनों की घटनाओं से अच्छी तरह मिल जाता है।

समवायाङ्ग सूत्र, व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र औपपातिक सूत्र और प्रज्ञापना सूत्र में तथा अन्यान्य प्राचीन जैन ग्रन्थों में जिन भाषा को अर्धमागधी नाम दिया गया है, 'स्यानाङ्गसूत्र और अनुयोगद्वारसूत्र में जिस भाषा को 'ऋषिभाषिता' कहा अर्धमागधी और प्रायः गया है और संभवतः इसी 'ऋषिभाषिता' पर से 'आचार्य हेमचन्द्र आदि ने जिस भाषा को 'आर्ष एक है (ऋषियों की भाषा)' संज्ञा रखी है वह वस्तुतः एक ही भाषा है अर्थात् अर्धमागधी, ऋषिभाषिता और आर्ष ये तीनों एक ही भाषा के भिन्न-भिन्न नाम हैं, जिनमें पहला उसके उत्पत्ति-स्थान से और बाकी के दो उम भाषा को सर्व-प्रथम साहित्य में स्थान देनेवालों से सम्बन्ध रखते हैं। जैन सूत्रों की भाषा वही अर्ध-मागधी, ऋषिभाषिता या आर्ष है। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में आर्ष प्राकृत के जो लक्षण और उदाहरण

१. समवायाङ्ग सूत्र, पत्र १०६ से १२५।

२. "जहा पत्रवणाए पटमए आहान्देसए" ( व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र १, १—पत्र १६ )।

३. देखो, स्यानाङ्ग सूत्र, पत्र ४१० में वर्णित निहव-स्वरूप।

४. देखो, पृष्ठ १६ में दिया हुआ समवायाङ्गसूत्र और औपपातिकसूत्र का पाठ।

"देवा एं भवे। क्यराए नासाए नासति? क्यरा वा नासा नासिक्वमाणी विसिस्सति? गोयमा। देवा एं अद्धमागहाए नासाए नासति, चावि य ए अद्धमागहा नासा नासिक्वमाणी विसिस्सति।" ( व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र ५, ४—पत्र २२१ )।

"वे किं त नासारिया? नासारिया के एं अद्धमागहाए नासाए नासति" ( प्रज्ञापनासूत्र १—पत्र ६२ )।

मगहद्विसयनासाणिवद्ध अद्धमागह, भट्टासदेनीनासानिययं वा अद्धमागह" ( निशीथचूर्णि )।

"आरिस्सवये निदं देवाएं अद्धमागहा वाणी" ( काव्यालकार की नमिसापुक्कतटीका २, १२ )।

"सर्वार्थमागधीं सर्वनापानु परिणामिनीम्।

सर्वपा सर्वतो वाचं सर्वज्ञी प्रणिद्वम्हे ॥" ( वाग्भट्टकाव्यानुशासन, पृष्ठ २ )।

५. "सकता पागता चैव दुहा नखितीओ आहिया।

सरमडलम्मि गिज्जते पत्तया इम्मिभासिता ॥" ( स्यानाङ्गसूत्र ७—पत्र ३६४ )।

'सक्या पायया चैव नखिईओ होंति दोरिएण वा।

सरमडलम्मि गिज्जते पत्तया इम्मिभासिता ॥" ( अनुयोगद्वारसूत्र, पत्र १३१ )।

६. देखो, हेमचन्द्र-प्राकृतव्याकरण का सूत्र १, ३।

"आपोंत्यमापंतुल्यं च द्विविधं प्राकृतं विदुः" ( हेमचन्द्रतर्कवागीश द्वारा काव्यादर्शटीका १, ३३ में प्रदूत किया हुआ पद्यांश )।

वताए है उनसे तय; 'अत एव सौ पुंसि मागव्याम्' ( हे० प्रा० ४, २८७ ) इस सूत्र की व्याख्या में जो "यदपि" "पोराणमद्वमागह-भासानियय ह्वइ सुत्तं" इत्यादिना आप्रस्य अर्धमागधभापानियतत्वमान्नायि वृद्धैस्तदपि प्रायोज्यैव विवानात्, न वक्ष्यमाणलक्षणस्य" यह कहकर उसी के अनन्तर जो दशमैकालिक सूत्र से उद्धृत "कयरे आगच्छइ, से तारिसे जिइदिए" यह उदाहरण दिया है उससे उक्त बात निर्विवाद सिद्ध होती है ।

डॉ. जेकोवी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर 'जैन महाराष्ट्री' नाम दिया है ।<sup>१</sup> डॉ. पिशल ने अपने सुप्रसिद्ध प्राकृत-व्याकरण में डॉ. जेकोवी की इस बात का सप्रमाण खंडन किया है और यह सिद्ध किया है कि आप्र और अर्धमागधी इन दोनों में परस्पर भेद नहीं है, एव प्राचीन जैन सूत्रों की—गद्य और पद्य दोनों की भाषा परम्परागत मत के अनुसार अर्धमागधी है<sup>२</sup> । परवर्ती काल के जैन प्राकृत ग्रन्थों की भाषा अल्पाग में अर्धमागधी की और अविकाश में महाराष्ट्री की विशेषताओं से युक्त होने के कारण 'जैन महाराष्ट्री' कही जा सकती है, परन्तु प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को, जो शौरसेनी आदि भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री से अधिक साम्य रखती हुई भी, अपनी उन अनेक खासियतों से परिपूर्ण है जो महाराष्ट्र आदि किसी प्राकृत में दृष्टिगोचर नहीं होती है, यह ( जैन महाराष्ट्री ) नाम नहीं दिया जा सकता ।

पंडित वेचरदास अपने गुजराती प्राकृत-व्याकरण की प्रास्तावना में जैन सूत्रों की अर्धमागधी भाषा को 'प्राकृत ( महाराष्ट्री ) सिद्ध करने की विफल चेष्टा करते हुए डॉ. जेकोवी से भी दो कदम आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि डॉ. जेकोवी जब इस भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री—साहित्य-निबद्ध महाराष्ट्री से पुरातन महाराष्ट्री बताते हैं तब पंडित वेचरदास, प्राकृत भाषाओं के इतिहास जानने की तनिक भी परवाह न रखकर, अर्वाचीन महाराष्ट्री से इस प्राचीन अर्धमागधी को अभिन्न सिद्ध करने जा रहे हैं । पंडित वेचरदास ने अपने सिद्धान्त के समर्थन में जो दलीलें पेश की हैं वे अधिकांश में भ्रान्त सत्कारों से उत्पन्न होने के कारण कुछ महत्त्व न रखती हुई भी कुलूहल-जनक अवश्य हैं । उन दलीलों का सारांश यह है—(१) अर्धमागधी में महाराष्ट्री से मात्र दो-चार रूपों की ही विशेषता (२) आचार्य हेमचन्द्र का इस भाषा के लिए स्वतन्त्र व्याकरण या शौरसेनी आदि की तरह अलग-अलग सूत्र न बनाकर प्राकृत ( महाराष्ट्री ) या आप्र प्राकृत में ही इसको अन्तर्गत करना, (३) इसमें मागधी भाषा की कतिपय विशेषताओं का अभाव, (४) निशीथचूर्णिकार के अर्धमागधी के दोनों में एक भी लक्षण की इसमें असंगति, (५) प्राचीन जैन ग्रन्थों में इस भाषा का 'प्राकृत' शब्द से निर्देश, (६) नाट्य-शास्त्र में और प्राकृत-व्याकरणों में निदिष्ट अर्धमागधी के साथ प्रस्तुत अर्धमागधी की असमानता ।

१. मागधी भाषा में अकारान्त पुलिग शब्द के प्रथमा के एकवचन में 'ए' होता है ।
२. इसका अर्थ यह है कि प्राचीन आचार्यों ने "पुराणा सूत्र अर्धमागधी भाषा में नियत है" इत्यादि वचन-द्वारा आप्र भाषा को जो अर्धमागधी भाषा कही है वह प्रायः मागधी भाषा के इसी एक एकारवाले विधान को लेकर, न कि आगे कहे जानेवाले मागधी भाषा के अन्य लक्षण के विधान को लेकर ।
३. इसी वचन के आधार पर डॉ. हॉर्नल का चण्ड-कृत प्राकृतलक्षण के इन्ट्रोडक्शन ( पृष्ठ १८-१९ ) में यह लिखना कि हेमचन्द्र के मत में 'पोराण' आप्र प्राकृत का एक नाम है, भ्रम-पूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 'पोराण' यह सूत्र का ही विशेषण है, भाषा का नहीं ।
४. आवश्यकसूत्र के पारिष्ठापनिकाप्रकरण ( दे० ला० पृ० फ० पत्र ६२८ ) में यह सपूर्ण गायो इस तरह है —  
"गुब्बावरसंजुत वेरगकरं सततमविरुद्ध । पोराणमद्वमागहभासानियय ह्वइ सुत्तं ॥"

५. Kalpa Sutra, Sacred Books of the East, Vol. XII.

६. Grammatik der Prākṛit-Sprachen, 16-17.

७. जैसे आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में महाराष्ट्री भाषा के प्रथम में प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है वैसे पंडित वेचरदास ने भी अपने प्राकृत-व्याकरण में, जो केवल हेमाचार्य के ही प्राकृत-व्याकरण के आधार पर रचा गया है, सर्वत्र साहित्यिक महाराष्ट्री के प्रथम में ही प्राकृत शब्द का व्यवहार किया है ।



प्रथम ढलील के उत्तर में हमें यहाँ अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार के अन्त में महाराष्ट्री से अर्धमागधी की विशेषताओं की जो सक्षिप्त सूची दी गई है वही पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त डॉ बनारसीदास की 'अर्धमागधी रीडर', मुनि श्रीरत्नचन्द्रजी की 'जैन-सिद्धान्त कौमुदी' और डॉ पिगल ना 'प्राकृत व्याकरण' मौजूद हैं; जिनमें क्रमशः अधिकाधिक सख्या में अर्धमागधी की विशेषताओं का संग्रह है। आचार्य हेमचन्द्र के ही प्राकृत-व्याकरण के 'आर्षम्' सूत्र से, इसकी स्पष्ट और नर्व-भेद-प्राप्ति व्यापक व्याख्या से और जगह-जगह किए हुए आर्ष के सोढहरण उल्लेखों से दूसरी ढलील की निर्मूलता सिद्ध होती है। यदि आचार्य हेमचन्द्र द्वारा ही निर्दिष्ट की हुई दो-एक विशेषताओं के कारण चूलिकापैशाची अलग भाषा मानी जा सकती है, अथवा आठ-दस विशेषताओं को लेकर गौरसेनी, मागधी और पैशाची भाषाओं को भिन्न-भिन्न भाषा स्वीकार करने में आपत्ति नहीं की जा सकती, तो कोई बजह नहीं है कि इसी व्याकरण के द्वारा प्रकारान्तर में अथवा स्पष्ट रूप से बनाई हुई वैसी ही अनेक विशेषताओं के कारण आर्ष या अर्धमागधी भी भिन्न भाषा न कही जाय। तीसरी ढलील की जड़ यह भ्रान्त सम्कार है कि 'वही भाषा अर्धमागधी कही जाने योग्य ही नरुती है जिसमें मागधी भाषा का आधा अंश हो'। इसी भ्रान्त सम्कार के कारण चौथी ढलील में उद्धृत निगीथचूर्ण के अर्धमागधी के प्रथम लक्षण ना सत्प और सोवा अर्थ भी उक्त पंडितजी की समझ में नहीं आया है। इस भ्रान्त सम्कार का निराकरण और निगीथचूर्णकार द्वारा बताए हुए अर्धमागधी के प्रथम लक्षण ना ओर उसके वास्तविक अर्थ का निर्देश इसी प्रकार में आगे चलकर अर्धमागधी के मूल की आलोचना के समय किया जायगा, जिससे इन दोनों ढलीलों के उत्तरों को यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। पाँचवीं ढलील भी प्राचीन आचार्यों के द्वारा जैन सूत्रग्रन्थों की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त किए हुए 'प्राकृत' शब्द को 'महाराष्ट्री' के अर्थ में बसोढने से ही हुई है। मालूम पड़ता है, पंडितजी ने जैसे अपने व्याकरण में 'प्राकृत' शब्द को केवल महाराष्ट्री के लिए रिजर्व कर रखा है, वैसे सभी प्राचीन आचार्यों के 'प्राकृत' शब्द को भी वे एकमात्र महाराष्ट्री के ही अर्थ में सुकर किया हुआ समझ बैठे हैं। परन्तु यह समझ गलत है। प्राकृत शब्द का मुख्य अर्थ है प्रादेशिक ब्य भाषा - लोक-भाषा। प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति भी वास्तव में इसी अर्थ से संगति रखती है यह हम पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित कर चुके हैं। ख्रिस्त की पष्ठ शताब्दी के आचार्य ढण्डी ने अपने काव्यादर्श में—

'गौरसेनी च गौडो च लाटो चान्या च ताटशी । याति प्राकृतमित्येवं व्यवहारेषु सनिधिम् ॥' (१, २५)।

इन खुले शब्दों में यही बात कही है। इससे भी यह स्पष्ट है कि प्राकृत शब्द मुख्यतः प्रादेशिक लोक-भाषा का ही वाचक है और इससे साधारण सभी प्रादेशिक ब्य भाषाओं के अर्थ में इसका प्रयोग होता आया है। ढण्डी के समय तक के सभी प्राचीन ग्रंथों में इसी अर्थ में प्राकृत शब्द का व्यवहार देखा जाता है। खुद ढण्डी ने भी महाराष्ट्री भाषा में प्राकृत शब्द के प्रयोग को 'प्रकृष्ट' शब्द से विशेषित करते हुए इसी बात का समर्थन किया है। ढण्डी के महाराष्ट्री को 'प्रकृष्ट प्राकृत' कहने के बाद ही से विशेष प्रसिद्धि होने के कारण, महाराष्ट्री के अर्थ में 'प्रकृष्ट' शब्द को जोड़ कर केवल प्राकृत शब्द का भी प्रयोग हेमचन्द्र आदि, किन्तु ढण्डी के पीछे के ही विद्वानों ने, कहीं कहीं किया है। पंडितजी ने वररुचि के समय से लेकर पीछले आचार्यों का महाराष्ट्री के ही अर्थ में प्राकृत शब्द का व्यवहार करने की जो बात उक्त टिप्पणी में ही लिखी है उससे प्रतीत होता है कि उन्होंने न तो वररुचि का ही व्याकरण देखा है और न उनके पीछे के आचार्यों के ही ग्रंथों का निरीक्षण करने की कोशिश की है, क्योंकि वररुचि ने तो 'शेष महाराष्ट्रीवत्' (प्राकृतप्रकाश १२, ३२) कहते हुए इस अर्थ में महाराष्ट्री शब्द का ही प्रयोग किया है, न कि प्राकृत शब्द का। आचार्य हेमचन्द्र ने भी कुमारपालचरित में 'पाइआहि नागहि' (१, १) में बहुवचन का निर्देश कर और देशीनाममाला (१, ४) में 'विशेष' शब्दलगाकर 'प्राकृत' का प्रयोग साधारण

१. 'आर्षं प्राकृतं बहुलं भवति । तदपि यवास्यान दशमिष्याम -। आर्षं हि सर्वे विद्ययो विकल्प्यन्ते' (हि० प्रा० १, ३)।
२. देखो, हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण के १, ४६, १, ५७, १, ७६, १, ११८, १, ११६, १, १५६, १, १७७, १, २२८, १, २५४; २, १७, २, २१, २, ८६, २, १०१, २, १०४; २, १४६, २, १७४, ३, १६२, श्रीर ४, २८७ सूत्रों की व्याख्या।
३. 'ऊपरना ववा उल्लेखोमा वपरायेनो 'प्राकृत' शब्द प्राकृत भाषानो सूचक छे, अनुयोगद्वारमा 'प्राकृत' शब्द प्राकृत भाषाना अर्थमा वपरायेनो छे. (पृ० १२१ स०)। व्याकरण वररुचिना समयधी तो ए शब्द ज अर्थमां वपरातो आव्यो छे, अने ए पछीना आचार्योए पण ए शब्दने ए ज अर्थमां वापरैलो छे, माटे कोईए अर्ही ए शब्दने भरडवो नहीं।' (प्राकृत-व्याकरण, प्रवेश, पृष्ठ २६ टिप्पणी)।
४. 'महाराष्ट्राश्रया नापा प्रकृतं प्राकृतं विदु' (काव्यादर्श १, ३४)।

लोक-भाषा के ही' अर्थ में ही किया है। आचार्य दण्डी और हेमचन्द्र ही नहीं, बल्कि ख्रिस्त की नववीं शताब्दी के कवि राजगोखर<sup>१</sup>, ग्यारहवीं शताब्दी के नमिसाधु<sup>२</sup>, उन्नीसवीं शताब्दी के प्रेमचन्द्रतर्कवागीश प्रभृति<sup>३</sup> प्रभूत जैन और जैनैतर विद्वानों ने इसी अर्थ में प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह जब यह अभ्रान्त सत्य है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक प्राकृत शब्द प्रादेशिक कथ्य भाषा के अर्थ में व्यवहृत होता आया है और इसका मुख्य और प्राचीन अर्थ साधारणतः सभी और विगेषतः कोई भी प्रादेशिक भाषा है, तब प्राचीन आचार्यों द्वारा भगवान् महावीर की उपदेश-भाषा के और उनके समसामयिक शिष्य सुधर्मस्वामि-प्रणीत जैन सूत्रों की भाषा के ही अभिप्राय में प्रयुक्त किए हुए 'प्राकृत' शब्द का 'अर्ध मगध-प्रदेश (जहाँ भगवान् महावीर और सुधर्मस्वामी का उपदेश और विचरण होना प्रसिद्ध है) की लोक-भाषा (अर्धमागधी)' इस सुसगत अर्थ को छोड़ कर मगध से सुदूरवर्ती प्रदेश 'महाराष्ट्र (जहाँ न तो भगवान् महावीर का और न सुधर्मस्वामी का ही उपदेश या विहार होना जाना गया है) की भाषा (महाराष्ट्री)' यह असंगत अर्थ लगाना, अपनी हीन विवेचना-शक्ति का परिचय देना है। इसी सिलसिले में पण्डितजी ने अनुयोगद्वारा सूत्र की एक अपूर्ण गाथा उद्धृत की है। यदि उक्त पण्डितजी अनुयोगद्वारा की गाथा के पूर्वार्ध का यहाँ पर उल्लेख करने के पहले इस गाथा के मूल स्थान को ढूँढ पाते और वे प्राकृत शब्द से जिस भाषा (महाराष्ट्री) का ग्रहण करते हैं इसके और प्राचीन सूत्रों की अर्धमागधी भाषा के इतिहास को न जानते हुए भी सिर्फ उत्तरार्ध-सहित इस गाथा पर ही प्रकरण-संगति के साथ जरा गौर से विचार करने का कष्ट उठाते, तो हमारा यह विश्वास है कि वे कम से कम इस गाथा का यहाँ हवाला देने का साहस और अनुयोगद्वारा के कर्त्ता पर अधेमागधी के विस्मरण का व्यङ्ग-श्राण छोड़ने की धृष्टता कदापि नहीं कर पाते। क्योंकि इस गाथा का मूल स्थान है तृतीय अग-ग्रन्थ जिसका नाम स्थानाङ्ग-सूत्र है। इसी स्थानाङ्ग-सूत्र के सम्पूर्ण स्वर-प्रकरण को अनुयोगद्वारा-सूत्र में उद्धृत किया गया है जिसमें वह गाथा भी शामिल है। वह सम्पूर्ण गाथा इस तरह है —

“सक्कता पागता चैव दुहा भण्डिप्रो माहिया । सरमडलम्मि गिज्जते पसत्या इसिभासिता ॥”

इसका शब्दार्थ है—“संस्कृत और प्राकृत ये दो प्रकार की भाषाएँ कही गई हैं, गाथे जाते स्वर-समूह (पड्ज-प्रभृति) में ऋषिभाषिता—आर्ष भाषा प्रशस्त है।” यहाँ पर प्रकरण है सामान्यतः गीत की भाषा का। वर्तमान समय की तरह उस समय भी सभी भाषाओं में गीत होते थे। इससे यहाँ पर इन सभी भाषाओं का निर्देश करना ही सूत्रकार को अभिप्रेत है जो उन्होंने संस्कृत—व्याकरण-संस्कार युक्त भाषा और प्राकृत—व्याकरण-संस्कार-रहित—लोक-भाषा इन दो मुख्य विभागों में किया है। इस तरह इस गाथा में पहले गीत की भाषाओं का सामान्य रूप से निर्देश कर बाद में इन भाषाओं में जो प्रशस्त है वह 'ऋषिभाषिता' इस विशेष रूप से बताई गई है। यदि यहाँ पर प्राकृत शब्द का 'प्रादेशिक लोक-भाषा' यह सामान्य अर्थ न लेकर पण्डितजी के कथनानुसार 'महाराष्ट्री' यह विशेष अर्थ लिया जाय तो गीत की सभी भाषाओं का निर्देश, जो सूत्रकार को करना आवश्यक है, कैसे हो सकता है? क्या उस समय अन्य लोक-भाषाओं में गीत होते ही न थे? गीत का ठेका क्या संस्कृत और महाराष्ट्री इन दो भाषाओं को ही मिला हुआ था? यह कभी सभावित नहीं है। इसी गाथा के उत्तरार्ध के “पसत्या इसिभासिता” इस वचन से अर्धमागधी की सूचना ही नहीं, बल्कि उसका श्रेष्ठपन भी सूत्रकार ने स्पष्ट रूप में बताया है। इससे पण्डितजी के उस कथन में कुछ भी सत्याश नजर नहीं आता है, जो उनसे सूत्रकार के अर्धमागधी की अलग सूचना न करने के बारे में किया गया है।

जैसे बौद्धसूत्रों की मागधी (पालि) से नाट्य-शास्त्र या प्राकृत-व्याकरणों में निर्दिष्ट मागधी भिन्न है वैसे जैन सूत्रों की अर्धमागधी से नाट्य-शास्त्र की या प्राकृत व्याकरणों की अर्धमागधी भी अलग है। इससे बौद्धसूत्रों की मागधी नाट्य-शास्त्र या प्राकृत-व्याकरणों की मागधी से मेल न रखने के कारण जैसे महाराष्ट्री न कही जाकर मागधी कही जाती है वैसे जैन सूत्रों की अर्धमागधी भाषा भी नाट्य-शास्त्र या प्राकृत-व्याकरणों की अर्धमागधी से समान न होने की वजह से ही महाराष्ट्री न कही जाकर अर्धमागधी ही कही जा सकती है।

१ 'पक्सो सक्कअ वधो पाउअ-वधोवि होइ सुउमारो' (कपूरमञ्जरी, अङ्क १)।

२ 'सूरेन्यपि प्राकृतभाषैव, तथा प्राकृतमेवापन्न श' (काव्यालङ्कार-टिप्पण २, १२)।

३ 'सर्वासामेव प्राकृतभाषाणा'—(काव्यादर्श-टीका १, ३३), 'तादृशीत्यनेन देशनामोपलक्षिता सर्वा एव भाषा प्राकृतसङ्गोच्यन्त इति सूचितम्' (काव्यादर्श-टीका १, ३५)।

भरत-रचित कहे जाते नाट्यशास्त्र में जिन सात भाषाओं का उल्लेख है उनमें एक अर्धमागधी भी है।<sup>१</sup> इसी नाट्यशास्त्र में नाटकों के नौकर, राजपुत्र और श्रेष्ठी इन पात्रों के लिए इस भाषा का प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है। इससे नाटकों में इन पात्रों की जो भाषा है वह अर्धमागधी कही जाती है। परन्तु नाटकों की अर्धमागधी और जैन सूत्रों की अर्धमागधी में परस्पर समानता की अपेक्षा इतना अधिक भेद है कि वह एक दूसरे से अभिन्न कभी नाटकीय अर्धमागधी नहीं कही जा सकती। मार्कण्डेय ने अपने प्राकृत-व्याकरण में मागधी भाषा के लक्षण बताकर उसी जैन-सूत्रों की अर्धमागधी प्रकरण के शेष में अर्धमागधी भाषा का यह लक्षण कहा है—<sup>२</sup>“शौरसेन्या भद्ररत्वादियमेवार्धमागधी” से भिन्न है अर्थात् शौरसेनी भाषा के निकट-वर्ती होने के कारण मागधी ही अर्धमागधी है। इस लक्षण के अनन्तर उन्होंने उक्त नाट्यशास्त्र के उस वचन को उद्धृत किया है, जिसमें अर्धमागधी के प्रयोगार्ह पात्रों का निर्देश है और इनके वाद उदाहरण के तौर पर वेणीसहार की राजसी की एक उक्ति का उल्लेख कर अर्धमागधी का प्रकरण व्यक्त किया है। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि भरत का अर्धमागधी-विषयक उक्त वचन और मार्कण्डेय का अर्धमागधी-विषयक उक्त लक्षण नाटकीय अर्धमागधी के लिए ही रचित है, जैन सूत्रों की अर्धमागधी के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। क्रमदीश्वर ने अपने प्राकृत-व्याकरण में अर्धमागधी का जो लक्षण किया है वह यह है—<sup>३</sup>“महाराष्ट्रीमिमांश धर्मागधी” अर्थात् महाराष्ट्री से मिश्रित मागधी भाषा ही अर्धमागधी है। जान पड़ता है, क्रमदीश्वर का यह लक्षण भी नाटकीय अर्धमागधी के लिए ही प्रयोज्य है, क्योंकि उक्त नाट्यशास्त्र में जिन पात्रों के लिए अर्धमागधी के प्रयोग का नियम बताया गया है, अनेक नाटकों में उन पात्रों की भाषा भिन्न-भिन्न है।<sup>४</sup> संभवतः इसी भिन्नता के कारण ही क्रमदीश्वर ने और मार्कण्डेय ने अर्धमागधी के भिन्न-भिन्न लक्षण किए हैं।

जैसे हम पहले कह चुके हैं, जैन सूत्रों की अर्धमागधी में इतर भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री के लक्षण अधिक देखने में आते हैं। किन्तु यह याद रखना चाहिए कि ये लक्षण साहित्यिक महाराष्ट्री से जैन अर्धमागधी में नहीं आये हैं। इसका कारण यह है कि जैन सूत्रों की अर्धमागधी भाषा साहित्यिक महाराष्ट्री भाषा से अधिक प्राचीन है और इससे यही (अर्धमागधी) महाराष्ट्री का मूल कही जा सकती है।<sup>५</sup> डॉ. हॉर्नेलि ने जैन अर्धमागधी महाराष्ट्री से अर्धमागधी को ही आर्य प्राकृत कहकर इसीको परवर्ती काल में उत्पन्न नाटकीय अर्धमागधी, महाराष्ट्री और शौरसेनी भाषाओं का मूल माना है। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में महाराष्ट्री नाम न दे कर प्राकृत के सामान्य नाम से एक भाषा के लक्षण दिए हैं और उनके उदाहरण साधारण तौर से अर्वाचीन महाराष्ट्री-साहित्य से उद्धृत किये हैं, परन्तु जहाँ अर्धमागधी के प्राचीन जैन ग्रन्थों से उदाहरण लिए हैं वहाँ इसको आर्य प्राकृत का विशेष नाम दिया है। इससे प्रतीत होता है कि आचार्य हेमचन्द्र ने भी एक ही भाषा के प्राचीन रूप को आर्य प्राकृत और अर्वाचीन रूप को महाराष्ट्री मानते हुए आर्य प्राकृत को महाराष्ट्री का मूल स्वीकार किया है।

नाटकीय अर्धमागधी में मागधी भाषा के लक्षण अधिकांश में पाये जाते हैं इससे ‘मागधी से ही अर्धमागधी भाषा की उत्पत्ति हुई है और जैन सूत्रों की भाषा में मागधी के लक्षण अधिक न मिलने से वह अर्धमागधी कहलाने योग्य नहीं’ यह जो भ्रान्त समझ कई लोगों के मन में जमा हुआ है, उसका मूल है अर्धमागधी शब्द को मागधी भाषा के अर्धांश

१. “मागव्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यधर्मागधी । वाहीका दक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीर्तिता ” (१७, ४८) ।

२. “चेदाना राजपुत्राणां श्रेष्ठिना चार्धमागधी” (भरतीय नाट्यशास्त्र, निर्णयसागरीय सस्करण, १७, ५०) ।

मार्कण्डेय ने अपने व्याकरण में इस विषय में भरत का नाम देकर जो वचन उद्धृत किया है वह इस तरह है—“राजसी-श्रेष्ठिचेदानुक्रम्यदिरधर्मागधी” इति भरत ” यह पाठान्तर ज्ञात होता है ।

३. प्राकृतसर्वस्व (पृष्ठ १०३) ।

४. चन्द्रिकासार (पृष्ठ ३८) ।

५. देवी, नाम-रचित कहे जाते ‘चावदत्त’ और ‘स्वप्नवासदत्त’ में क्रमशः चेट तथा चेटो की भाषा और शूद्रक के ‘मृच्छकटिक’ में चेट और श्रेष्ठो चन्दनदास की भाषा ।

६. “It thus seems to me very clear, that the Prākṛit of Chanda is the ARSHA or ancient (Purana) form or the Ardbhamāgadhī, Mahārāshtri and Sauraseni.” (Introduction to Prākṛita Lakshana of Chanda, Page XIX).

में ग्रहण करना, अर्थात् 'अर्ध मागध्या' यह व्युत्पत्ति कर 'जिसका अर्धांश मागधी भाषा वह अर्धमागधी' ऐसा करना। वस्तुतः अर्धमागधी शब्द की न वह व्युत्पत्ति ही सत्य है और न वह अर्थ ही। अर्धमागधी शब्द अर्धमागधी शब्द की वास्तविक व्युत्पत्ति है 'अर्धमागधस्येयम्' और इसके अनुसार इसका अर्थ है 'मगध देश के अर्धांश की जो भाषा वह अर्धमागधी'। यही बात ख्रिस्त की सातवीं शताब्दी के ग्रन्थकार श्रीजिनदासगणि महत्तर ने निशीयचूर्णि नामक ग्रन्थ में 'पोराणमदमागहमासानियम् हवइ सुत" इस उल्लेख के 'अर्धमागध' शब्द की व्याख्या के प्रसङ्ग में इन स्पष्ट शब्दों में कही है — "मगहद्विसयमासानिवद मदमागह" अर्थात् मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निवद होने के कारण प्राचीन सूत्र 'अर्धमागध' कहा जाता है।

परन्तु, अर्धमागधी का मूल उत्पत्ति स्थान पश्चिम मगध अथवा मगध और शूरसेन का मध्यवर्ती प्रदेश (अयोध्या) होने पर भी जैन अर्धभाषा में मागधी और शौरसेनी भाषा के विशेष लक्षण देखने में नहीं आते। महाराष्ट्री के साथ ही इसका अधिक सादृश्य नजर आता है। यहाँ पर प्रश्न होता है कि इस सादृश्य का कारण क्या है? सर प्रियर्सन ने अपने प्राकृत-भाषाओं के भौगोलिक विवरण में यह स्थिर किया है कि जैन अर्धमागधी मध्यदेश (शूरसेन) और मगध के मध्यवर्ती देश (अयोध्या) की भाषा थी एवं आधुनिक पूर्वीय हिन्दी उससे उत्पन्न हुई है। किन्तु हम देखते हैं कि अर्धमागधी के लक्षणों के साथ मागधी, शौरसेनी और आधुनिक पूर्वीय हिन्दी का कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु महाराष्ट्री प्राकृत और आधुनिक मराठी भाषा के साथ उसका सादृश्य अधिक है। इसका कारण क्या? किसीने अभी तक यह ठीक-ठीक नहीं बताया है। यह सम्भव है, जैसा हम पाटलिपुत्र के सम्मेलन के प्रसंग में ऊपर कह आये हैं, चन्द्रगुप्त के राजत्वकाल में (ख्रिस्त-पूर्व ३१०) बारह वर्षों के अकाल के समय जैन मुनि-सघ पाटलीपुत्र से दक्षिण की ओर गया था। उस समय वहाँ के प्राकृत के प्रभाव से अग-ग्रन्थों की भाषा का कुछ कुछ परिवर्तन हुआ था। यहाँ महाराष्ट्री प्राकृत का आर्ष प्राकृत के साथ सादृश्य का कारण हो सकता है।

सर आर. जि भाण्डारकर जैन अर्धमागधी का उत्पत्ति-समय ख्रिस्तीय द्वितीय शताब्दी मानते हैं। उनके मत में कोई भी साहित्यिक प्राकृत भाषा ख्रिस्त की प्रथम या द्वितीय शताब्दी से पहले की नहीं है। शायद इसी मत का अनुसरण कर डॉ सुनीतिकुमार चटर्जी ने अपनी Origin and Development of Bengalee Language नामक पुस्तक में (Introduction, page 18) समस्त नाटकीय प्राकृत-भाषाओं का और जैन अर्धमागधी का उत्पत्ति-काल ख्रिस्तीय तृतीय शताब्दी स्थिर किया है। परन्तु त्रिवेन्द्रमु से प्रकाशित भास-रचित कहे जाते नाटकों का निर्माण-समय अन्ततः ख्रिस्त की दूसरी शताब्दी के बाद का न होने से और अश्वघोष-कृत बौद्ध-धर्म-विषयक नाटकों के जो कतिपय अंश डॉ ल्युडर्स ने प्रकाशित किए हैं उनका समय ख्रिस्त की प्रथम शताब्दी निश्चित होने से यह प्रमाणित होता है कि उस समय भी नाटकीय प्राकृत भाषाएँ प्रचलित थीं। और डॉ ल्युडर्स ने यह स्वीकार किया है कि अश्वघोष के नाटकों में जैन अर्धमागधी भाषा के निदर्शन हैं। इससे जैन अर्धमागधी की प्राचीनता का यह भी एक विश्वस्त प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, डॉ जेकोवी जैन सूत्रों की भाषा और मथुरा के शिलालेखों (ख्रिस्तीय सन् ८३ से १७६) की भाषा से यह अनुमान करते हैं कि जैन अग-ग्रन्थों की अर्धमागधी का काल ख्रिस्त-पूर्व चतुर्थ शताब्दी का शेष भाग अथवा ख्रिस्त-पूर्व तृतीय शताब्दी का प्रथम भाग है। हम डॉ. जेकोवी के इस अनुमान को ठीक समझते हैं जो पाटलिपुत्र के उस सम्मेलन से सगति रखता है जिसका उल्लेख हम पूरे कर चुके हैं।

संस्कृत के साथ महाराष्ट्री के जो प्रधान-प्रधान भेद हैं, उनकी सक्षिप्त सूची महाराष्ट्री के प्रकरण में दी जायगी। यहाँ पर महाराष्ट्री से अर्धमागधी की जो मुख्य-मुख्य विशेषताएँ हैं उनकी सक्षिप्त सूची दी जाती है। उससे अर्ध मागधी के लक्षणों के साथ महाराष्ट्री के लक्षणों की तुलना करने पर यह अच्छी तरह ज्ञात हो सकता है कि महाराष्ट्री की अपेक्षा अर्धमागधी की वैदिक और लौकिक संस्कृत से अधिक निकटता है जो अर्ध-मागधी की प्राचीनता का एक श्रेष्ठ प्रमाण कहा जा सकता है।

#### वर्ण-भेद

१ दो स्वरों के मध्यवर्ती असंयुक्त क के स्थान में प्रायः सर्वत्र ग और अनेक स्थलों में त और य होता है, जैसे—

ग—प्रकल्प = पगल्प; भाकर = भागर, भाकाश = भागास, प्रकार = पगार, श्रावक = सावक; विवर्जक = विवर्जग, निपेवक = निपेवग,

लोक = लोग; आकृति = भागइ।

त—आराधक = आराहत (ठाणुगसूत्र—पत्र ३१७), सामायिक = सामाजित (ठा० ३२२), विशुद्धिक = विशुद्धित (ठा० ३२२), अक्विक = अक्वित (ठा० ३६३), शाकुनिक = साजणित (ठा ३६३), नैयधिक = ऐसजित (ठा० ३६७), वीरासनिक = वीरासणित (ठा० ३६७), वर्धकि = वद्धति (ठा० ३६८), नैरयिक = नेरयित (ठा० ३६६), सीमतक = सीमतत (ठा० ४५८), नरकान् = नरतातो (ठा० ४५८), माडम्बिक = माडवित (ठा० ४५६), कौटुम्बिक = कौटु वित (ठा० ४५६), सचक्षुष्केण = सचक्षुतेण (विपाकश्रुत—पत्र ५), कृणिक = कृणित (विपा० ५ टि), अन्तिकत् = अन्तिततो (विपा० ७), राहसिकेन = रहस्तिरेण (विपा ४, १८) इत्यादि ।

य—कायिक = काश्य, लोक = लोप वगैरह ।

- ० दो स्वरों के बीच का असयुक्त ग प्राय कायम रहता है । कहीं-कहीं इसका त और य होता है । जैसे—आगम = आगम, आगमन = आगमण, आनुगामिक = आणुगामिय, आगमिष्यत् = आगमित्स, जागर = जागर आगारिन् = अगारि, भावन् = भगव, अतिग = अतित (ठा० ३६७), सागर = सायर ।
३. दो स्वरों के बीच के असयुक्त च और ज के स्थान में त और य उभय ही होता है । च के उदाहरण, जैसे—नाराच = एणारात (ठा० ३५७), वचस् = वति (ठा० ३६८, ४५०), प्रवचन = पावतण (ठा० ४५१), कदाचित् = कयानी (विपा० १०, ३०), वाचना = वायणा, उपचार = उवयार, लोच = लोय, आनायं = आयरिय । ज के कुछ निदर्शन ये हैं—मोचिन् = मोति (सूत्र २, ६, १०), वज्र = वतिर (ठा० ३५७), पूजा = पूता (ठा० ३५८), राजेश्वर = रातीसर (ठा० ४५६), आत्मज = अत्तते (विपा० ४ टि), प्रजात = पयाय, कामवजा = कामवज्या, आत्मज = अत्तय ।
४. दो स्वरों का मध्यवर्ती त प्राय कायम रहता है कहीं-कहीं इसका य होता है यथा—वन्दते = वदति, नमन्यति = नमंसति, पशुपान्ते = पञ्जुवासति (सूत्र २, ७, विपा—पत्र ६), जितेन्द्रिय = जितिदिय (सूत्र २, ६, ५), सतत = सतत (सूत्र १, १, ४, १२), भवति = भवति (ठा०—पत्र ३१७), अतरित = अतरित (ठा० ३४६), वैवत = वेवत (ठा० ३६३), जाति = जाति, आकृति = आगिति, विहरति = विहरति (विपा—४), पुरत = पुरतो, करोति = करेति (विपा० ६), तत = तते (विपा० ६, ७, ८), सदित्तु = संदित्तु-सलपति = सलवति (विपा० ७, ८), प्रमृति = पमिति (विपा० १५, १६), करतल = करयल ।
५. स्वरों के बीच में स्थित द का द और त ही अधिकांश में देखा जाता है, कहीं-कहीं य भी होता है, जैसे—  
द—प्रदिश = पदितो (आना), भेद = भेद, अनादिक = अनादिय (सूत्र २, ७), वदत् = वदमाण, नदति = एदति, जनपद = जणवद, वेदिप्यति = वेदिहिती (ठा०—पत्र क्रमश ३२१, ३६३, ४५८, ४५६) इत्यादि ।  
त—यदा = जता, पाद = पात, निपाद = निसात, नदी = नती, मृपावाद = मुमावात, नादिक = नातित, अयदा = अयता, कदाचित् = कताती (ठा०—पत्र क्रमश ३१७, ३४६, ३६३, ३६७, ४५०, ४५१, ४५८, ४५६), यदि = जति, चिरादिक = चिरातीत (विपा० पत्र ४) इत्यादि ।  
य—प्रतिच्छादन = पडिच्छायण, चतुष्पद = चतुष्पय वगैरह ।
६. दो स्वरों के मध्य में स्थित प के स्थान में प्राय सर्वत्र व ही होता है, यथा—पापक = पावग, सलपति = सलवति, सोपचार = सोवयार, प्रतिपात = अतिवात, उपनीत = उवणीय, अच्युपपन्न = अज्जोववण, उपशूढ = उवशूढ, आधिपत्य = आहेवच, तपक = तवय, व्यपरोपित = ववरोचित इत्यादि ।
७. स्वरों के मध्यवर्ती य प्राय कायम रहता है, अनेक स्थानों में इसका त देखा जाता है, जैसे—  
य—वायव = वायव, प्रिय = पिय, निरय = निरय, इन्द्रिय = इन्द्रिय, गायति = गायइ प्रभृति ।  
त—स्यान् = सिता, सामायिक = सामाजित, कायिक = कातित, पालयिष्यन्ति = पालतित्सति, पर्याय = परितात, नायक = एातग, गायति = गातित, स्यायिन् = ठाति, शायिन् = साति, नैरयिक = नेरयित (ठा० पत्र क्रमश ३१७, ३२२, ३२३, ३५७, ३५८, ३६३, ३६४, ३६७, ३६८, ३६६), इन्द्रिय = इन्द्रित (ठा० ३२२, ३५५) इत्यादि ।
८. दो स्वरों के बीच के व के स्थान में व, त, और य होता है, यथा—  
व—वायव = वायव, गौरव = गारव, भवति = भवति, अनुविचिन्त्य = अणुवीति (सूत्र १, १, ३, १३) इत्यादि ।  
त—परिवार = परिवार, कवि = कति (ठा० पत्र क्रमश ३५८, ३६३) इत्यादि ।  
य—परिवर्तन = परिवट्टण, परिवर्तना = परिवट्टणा (ठा० ३४६) वगैरह ।
९. महाराष्ट्री में स्वर-मध्य-वर्ती असयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, य, व इन व्यञ्जनों का प्राय. सर्वत्र लोप होता है और प्राकृतप्रकाश आदि प्राकृत-व्याकरणों के अनुसार इन लुप्त व्यञ्जनों के स्थान में अन्य कोई वर्ण नहीं होता । सेतुबन्ध, नाथासप्तशती और कर्पूरमञ्जरी आदि नाटकों की महाराष्ट्री भाषा में भी यह लक्षण ठीक-ठीक देखने में

आता है। आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण के अनुसार उक्त लुप्त व्यञ्जनों के दोनों तरफ अवर्ण (अ या आ) हाने पर लुप्त व्यञ्जन के स्थान में 'य्' होता है। 'गडडवहा' में यह 'य्' अधिक मात्रा में (उक्त व्यञ्जनों के पूर्व में अवर्ण-भङ्गन स्वर रहने पर भी) पाया जाता है। परन्तु जैन अर्धमागधी में, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, प्रायः उक्त व्यञ्जना के स्थान में अन्य अन्य व्यञ्जन होते हैं और कहीं कहीं तो वहा व्यञ्जन कायम रहता है। हाँ, कहीं कहीं उक्त व्यञ्जनों के स्थान में अन्य व्यञ्जन हाने या वही व्यञ्जन रहने के बदले महाराष्ट्री की तरह लोप भी देखा जाता है, किन्तु यह लोप वहाँ पर ही देखने में आता है जहाँ उक्त व्यञ्जनों के बाद अ या आ से भिन्न कोई स्वर होता है; जैसे—लोक = लोओ, रोचित = रोइत, भोजिन् = भोइ, आतुर = आउर, आदेशि = आएसि, कायिक = काइय, आवेश = आएस वगैरह।

०. शब्द क आदि में, मध्य में और सयोग में सर्वत्र ए की तरह न भी होता है, जैसे—नदी = नई, ज्ञातपुत्र = नायपुत्र, आरनाल = आरनाल, अनल = अनल, अनिल = अनिल, प्रजा = पन्ना, अन्योन्य = अन्नमन्न, विज्ञ = विन्नु, सर्वज्ञ = सब्वन्नु इत्यादि।
१. एव के पूर्व के अम् के स्थान में आम् होता है, यथा—यामेव = जामेव, तामेव = तामेव, क्षिप्रमेव = क्षिप्पामेव, एवमेव = एवामेव, पूर्वमेव = पुव्वामेव इत्यादि।
२. दीर्घ स्वर के बाद के इति वा के स्थान में ति वा और इ वा होता है, जैसे—इन्द्रमह इति वा = इंदमहे ति वा, इदमहे इ वा इत्यादि।
३. यया और यावत् शब्द के य का लोप और ज दोनों ही देखे जाते हैं, जैसे—ययाख्यात = ग्रहवक्षाय, ययाजात = ग्रहाजात, ययानामक = जहाणामए, यावत्कथा = आवकहा, यावजीव = जावजीव।

#### वर्णागम

१. गद्य में भी अनेक स्थलों में समास के उत्तर शब्द के पहले में आगम होता है, यथा—निरयंगामी, उडुंगारव, दीहगारव, रूस्तगारव, गोणमाइ, सामाइयमाइयाई, अजहएणमएणुक्कोस, अडुनजमसुहा आदि। महाराष्ट्री के पद्य में पादपूर्ति के लिए ही कहीं कहीं में आगम देखा जाता है, गद्य में नहीं।

#### शब्द-भेद

१. अर्धमागधी में ऐसे प्रचुर शब्द हैं जिनका प्रयोग महाराष्ट्री में प्रायः उपलब्ध नहीं होता, यथा—अज्झकतिय, अज्झोव-वएण, अणुवीति, आधवणा, आववेत्तग, आणापाण, आवीकम्म, कएहुइ, केमहालय, दुल्ल, पच्चतियमिल्ल, पाठकुव्व, पुरतियमिल्ल, पोरेवच्च, महत्तिमहालिया, वक्क, विच्च इत्यादि।
२. ऐसे शब्दों की संख्या भी बहुत बड़ी है जिनके रूप अर्धमागधी और महाराष्ट्री में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं —

अर्धमागधी	महाराष्ट्री	अर्धमागधी	महाराष्ट्री
अभियागम	अभ्यागम	सच्च (तथ्य)	तच्छ
आउटण	आउचण	तेगिच्छा	चिइच्छा
आहरण	उआहरण	दुवालसग	वारसग
उप्पि	उवरि, अवरि	दोष	दुइअ
क्रिया	किरिआ	नितिय	रिणच्च
कीस, केस	केरस	निएय	रिणअअ
केवच्चिर	किअच्चिर	पहुप्पन्न	पच्चुप्पएण
गेहि	गिद्धि	पच्छेकम्म	पच्छाकम्म
चियत्त	चइअ	पाय (पात्र)	पत्त
छच्च	छक्क	पुढो (पुयक्)	पुहं, पिहं
जाया	जत्ता	पुरेकम्म	पुराकम्म
रिणएण, रिणगिण (नग्न)	रणग	पुव्वि	पृव्वं
रिणगिरिणए (नाग्न्य)	रणगत्तए	माय (मात्र)	मत्त, मेत्त
सच्च (तृतीय)	तइअ	माहएण	वम्हएण

अर्धमागधी	महाराष्ट्री	अर्धमागधी	महाराष्ट्री
मिलकतु, मेच्छ	मिलिच्छ	सोम्राण, सुम्राण	मस्राण
कगू	वाम्रा	सुमिण	सिमिण
वाहणा ( व्पाहन् )	च्वाणाम्रा	मुह्म, मुह्म	सएह
सहृज्ज	सहाम्र	सोहि	सुदि

और, दुवानस, वारस, तेरन, मउणवीरद, वतीन, पणतीस, झग्याल, तेयानोस, पणयास, प्रय्यास, एणट्टि, वानट्टि, तेउट्टि, छावट्टि, अउसट्टि, अउणत्तरि, वावत्तरि, पणणत्तरि, सत्तहत्तरि, तेयात्ती, छलसीद, बाणवइ प्रभृति नख्या-शब्दों के रूप अर्धमागधी में मिलते हैं, महाराष्ट्री में वैसे नहीं।

#### नाम-विभक्ति

- अर्धमागधी में पुलिंग अकारान्त शब्द के प्रथमा के एकरवचन में प्रायः सर्वत्र ए और क्वचित् ओ होता है, किन्तु महाराष्ट्री में ओ ही होता है।
- सप्तमी का एक वचन न्चि होता है जब महाराष्ट्री में म्मि।
- चतुर्थी के एक वचन में प्राए या प्राते होता है, जैसे—देवाए, सवणयाए, गनणाए, मट्टाए, महिताते, मनुनाते, मन्मनाते (वा० पृ० ३५८) इत्यादि महाराष्ट्री में यह नहीं है।
- अनेक शब्दों के तृतीया के एकरवचन में सा होता है, यथा—मणसा, वपसा, कायसा, जोगसा, वनसा, चक्रुसा; महाराष्ट्री में इनके स्थान में क्रमशः मणेण, वएण, काएण, जोगेण, वतेण, चक्रुणा।
- कम्म और वम्म शब्द के तृतीया के एक वचन में पालि की तरह कम्मूणा और वम्मूणा होता है, जब कि महाराष्ट्री में कम्मैण और वम्मैण।
- अर्धमागधी में त्त शब्द के पञ्चमी के बहुवचन में तेजो रूप भी देखा जाता है।
- दुपपन्न शब्द की पट्टी का एकवचन सम्भृत की तरह त्त और अस्मन् की पट्टी का बहुवचन पस्साक अर्धमागधी में पाया जाता है जो महाराष्ट्री में नहीं है।

#### आख्यात-विभक्ति

- अर्धमागधी में भूतकाल के बहुवचन में इनु प्रत्यय है, जैसे—गुच्छिनु, गच्छिनु, मानाविनु इत्यादि। महाराष्ट्री में यह प्रयोग लुप्त हो गया है।

#### घातु-रूप

- अर्धमागधी में भाइक्खइ, कुवइ, ठुवि, होक्खती, व्वा, मन्वो, होत्या, हुत्या, पहरेत्या, प्रायं, दुह्हइ, विगिणए, तिवायइ, मन्नात्ती, तिउट्टई, तिउट्टिवा, पडिउंवाति, सारयती, धेच्छिइ, सभुच्छिहति, ग्राहसु प्रभृति प्रभूत प्रयोगों में घातु की प्रकृति, प्रत्यय अथवा ये दोनों जिस प्रकार में पाये जाते हैं, महाराष्ट्री में वे भिन्न भिन्न प्रकार के देखे जाते हैं।

#### घातु-प्रत्यय

- अर्धमागधी में त्वा प्रत्यय के रूप अनेक तरह के होते हैं :—  
 (क) ट्टु; जैसे—कट्टु, साहट्टु, मवहट्टु इत्यादि।  
 (ख) इत्ता, एत्ता, इत्ताणं और एत्ताणं; यथा—चइत्ता, विउट्टित्ता, पासित्ता, करेत्ता, पासित्ताण, करेत्ताणं इत्यादि।  
 (ग) इत्तु; यथा—दुह्हित्तु, जाणित्तु, ववित्तु प्रभृति।  
 (घ) चा; जैसे—किचा, एसा, सोचा, मोचा, चेसा वगैरह।  
 (ङ) इया, यथा—परिजाणिया, दुह्हिया आदि।  
 (च) इनके अतिरिक्त विउक्कम्म, निसम्म, समिष, सत्ताए, अणुवोति, लहुं, लदूण, दिग्धा इत्यादि प्रयोगों में 'त्वा' के रूप भिन्न भिन्न तरह के पाये जाते हैं।
- तुम प्रत्यय के स्थान में इत्तए या इत्तते प्रायः देखने में आता है जैसे—करित्तए, गच्छित्तए, संनुवित्तए, उवसामित्तते (विपा० १३), विहरित्तए आदि।
- ऋकारान्त घातु के त्त प्रत्यय के स्थान में उ होता है, जैसे—कड, मड, ममिहड, वावड, संवुड, वियड, वित्पड प्रभृति।

## तद्धित

१. तर प्रत्यय का तराय रूप होता है; यथा—अण्डितराए, अण्डतराए, अण्डतराए इत्यादि ।
२. आत्तो, आत्ततो, गोमी, बुत्तिमं, भगवतो, पुरत्तियम, पत्तियम, अयोत्ती, दोत्तिणो, पोरेवच्च आदि प्रयोगों में मतुप्, और अन्य तद्धित प्रत्ययों के जैसे रूप जैन अर्धमागधी में देखे जाते हैं, महाराष्ट्री में वे भिन्न तरह के होते हैं ।

महाराष्ट्री से जैन अर्धमागधी में इनके अर्थात्तरक्त और भी अनेक सूक्ष्म भेद हैं, जिनका उल्लेख विन्तार-भय से यहाँ नहीं किया गया है ।

## (५) जैन महाराष्ट्री

जैन सूत्र-ग्रन्थों के सिवा श्वेताम्बर जैनों के रचे हुए अन्य ग्रन्थों की प्राकृत भाषा को 'जैन महाराष्ट्री' नाम दिया नाम-निर्देश और गया है । इस भाषा में तीर्थंकर और प्राचीन मुनियों के चरित्र, कथाएँ, दर्शन, तर्क, उपासना, भूगोल, साहित्य स्तुति आदि विषयों का विशाल साहित्य विद्यमान है ।

प्राकृत के प्राचीन व्याकरणों ने 'जैन महाराष्ट्री' यह नाम देकर किसी भिन्न भाषा का उल्लेख नहीं किया है । किन्तु आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने व्याकरण, काव्य और नाटक-ग्रन्थों में महाराष्ट्री का जो रूप देखा जाता है उससे श्वेताम्बर जैनों के ग्रन्थों की भाषा में कुछ कुछ पार्थक्य देख कर इसका 'जैन महाराष्ट्री' नाम दिया है । इस भाषा में प्राकृत-व्याकरणों में बताये हुए महाराष्ट्री भाषा के लक्षण विशेष रूप से मौजूद होने पर भी जैन अर्धमागधी का बहुत-कुछ प्रभाव देखा जाता है ।

जैन महाराष्ट्री के कतिपय ग्रन्थ प्राचीन हैं । यह द्वितीय स्तर के प्रथम युग के प्राकृतों में स्थान पा सकती है । पयसा ग्रन्थ, नियुक्तियों, पद्मचरित्र, उपदेशमाला प्रभृति ग्रन्थ प्रथम युग की जैन महाराष्ट्री के उदाहरण हैं । बृहत्कल्प-भाष्य, व्यवहारसूत्र-भाष्य, विनेपावश्यक-भाष्य, निशीथचूर्णि, धर्मसप्रहणी, समराडच्चकहा प्रभृति ग्रन्थ मध्य-युग और शेष-युग में रचित होने पर भी इनकी भाषा प्रथम युग की जैन महाराष्ट्री के समान है । दशम शताब्दी के बाद रचे गये प्रवचन-सारोद्धार, उपदेशपदटीका, सुपासनाहचरित्र, उपदेशरहस्य प्रभृति ग्रन्थों की भाषा भी प्रायः प्रथम युग की जैन महाराष्ट्री के ही अनुरूप है । इससे यहाँ पर यह कहना होगा कि जैन महाराष्ट्री के ये ग्रन्थ आधुनिक काल में रचित होने पर भी उसकी भाषा, संस्कृत की तरह, अतिप्राचीन काल में ही उत्पन्न हुई थी और यह भी अनुमान किया जा सकता है कि जैन महाराष्ट्री क्रमशः परिवर्तित होकर मध्य-युग की व्यञ्जन-लोप-बहुल महाराष्ट्री में रूपान्तरित हुई है ।

अर्धमागधी के जो लक्षण पहले बताये गए हैं उनमें से अनेक इस भाषा में भी पाये जाते हैं । ऐसे लक्षणों में लक्षण कुछ ये हैं :—

१. क के स्थान में अनेक स्थलों में ग ।
२. लुप्त व्यञ्जनों के स्थान में य् ।
३. शब्द के आदि और मध्य में भी ए की तरह न ।
४. मया और यावत् के स्थान में क्रमशः जहा और जाव की तरह भहा और भ्राव भी ।
५. समास में उत्तर पद के पूर्व में 'म्' का आगम ।
६. पाय, माय, तेगिच्छग, पडुम्मएण, साहि, सुद्धम, सुमिण आदि शब्दों का भी, पत्त, मेत्त, चेहच्छय आदि की तरह प्रयोग ।
७. तृतीया के एकवचन में कहीं कहीं सा प्रत्यय ।
८. भाइत्तइ, बुव्वइ प्रभृति धातु-रूप ।
९. सोष्ठा, किष्ठा, वदित्तु आदि त्वा प्रत्यय के रूप ।
१०. कड, वावड, संबुड, प्रभृति त-प्रत्ययान्त रूप ।



## (६) अशोक-लिपि

सम्राट् अशोक ने भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न स्थानों में अपने धर्म के उपदेशों को शिलालेखों में खुदवाये थे। ये सब शिलालेख उस समय में प्रचलित भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में रचित हैं। भाषा साम्य की दृष्टि से ये सब शिलालेखों में प्रधानतः इन तीन भागों में विभक्त किये जा सकते हैं —

- (१) पंजाब के शिलालेख। इनकी भाषा संस्कृत के अनुरूप है। इनमें र का लोप नहीं देखा जाता।
- (२) पूर्व भारत के शिलालेख। इनकी भाषा ज्ञानमागधी के साथ सादृश्य देवने में आता है। इनमें र के स्थान में सर्वत्र ल है।
- (३) पश्चिम भारत के शिलालेख। ये उज्जयिनी की उस भाषा में हैं जिसका पालि के साथ अधिक साम्य है। इन तीनों प्रकार के शिलालेखों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिन पर से इनका भेद अच्छी तरह समझ में आ सकता है।

संस्कृत	कपर्दीगिर (पनाव)	धौलि (उडीसा)	गिरनार (गुजरात)
देवानाप्रियस्य	देवानप्रियस	देवानंपियस	देवानंपियस
राज्ञ	रणो	सज्जिने	रानो, रनो
वृत्ता	—	लुत्तनि	वच्छा
शुभ्रूपा	सुभ्रूपा	सुभ्रूसा	सुमुसा
नास्ति	नास्ति, नाम्ति	नायि, नयि, नया	नाम्ति

इन शिलालेखों का समय ख्रिस्त-पूर्व २५० वर्ष का है।

इन शिलालेखों की भाषा की उत्पत्ति भगवान् महावीर की एवं सम्भवतः बुद्धदेव की उपदेश-भाषा से ही हुई है।<sup>१</sup>

## (७) सौरसेनी

संस्कृत-नाटकों में प्राकृत गद्यांग सामान्य रूप से सौरसेनी भाषा में लिखा गया है। अश्वघोष के नाटकों में एक निदर्शन तरह की सौरसेनी के उदाहरण पाये जाते हैं, जो पालि और अशोकलिपि की भाषा के अनुरूप और पिछले काल के नाटकों में प्रयुक्त सौरसेनी की अपेक्षा प्राचीन है। भाम के कालिदास के और इनके बाद के अधिक नाटकों में सौरसेनी के निदर्शन देखे जाते हैं।

वररुचि, हेमचन्द्र, क्रमदीश्वर, लक्ष्मीधर और मार्कण्डेय आदि के प्राकृत-व्याकरणों में सौरसेनी भाषा के लक्षण और उदाहरण पाये जाते हैं।

दण्डी, रुद्रट और वाग्भट आदि संस्कृत के अलंकारिकों ने भी इस भाषा का उल्लेख किया है।

भारत के नाट्यशास्त्र में सौरसेनी भाषा का उल्लेख है, उन्होंने नाटक में नायिका और सखियों के लिए इस भाषा का प्रयोग बताया है।<sup>२</sup>

भारत ने विदूषक की भाषा प्राच्या कही है<sup>३</sup>, परन्तु मार्कण्डेय के व्याकरण में प्राच्या भाषा के जो लक्षण दिये गये हैं उनसे और नाटकों में प्रयुक्त विदूषक की भाषा पर से यह मालूम होता है कि सौरसेनी से इस भाषा (प्राच्या) का कुछ विशेष भेद नहीं है। इससे हमने भा प्रस्तुत कोष में उसका अलग उल्लेख न करके सौरसेनी में ही अन्तर्भाव किया है।

दिगम्बर जैनो के प्रवचनमार, उच्यसग्रह प्रभृति ग्रन्थ भी एक तरह की सौरसेनी भाषा में ही रचित है। यह भाषा श्वेतान्वरों की अर्धमागधी और प्राकृत-व्याकरणों में लिखित सौरसेनी के मिश्रण से बनी हुई है। इस भाषा को 'जैन सौरसेनी' नाम दिया गया है। जैन सौरसेनी मध्ययुग की जैन महाराष्ट्री की अपेक्षा जैन अर्धमागधी से अधिक निकटता रखती है और मध्ययुग की जैन महाराष्ट्री से प्राचीन है।

१ हाल ही में डॉ० त्रिवुवनदास लहेरचंद ने अपने एक गुजराती लेख में अनेक प्रमाण और युक्तियों से यह सिद्ध किया है कि अशोक के शिलालेखों के नाम से प्रसिद्ध शिलालेख सम्राट् अशोक के नहीं, परन्तु जैन सम्राट् सप्तति के खुदवाये हुए हैं।

२. See Dr A. B. Keith's Sanskrit Drama, Page 87.

३. "नायिकाना सखीनां च सूरसेनाविरोधिनो" (नाट्यशास्त्र १७, ५१)।

४. "प्राच्या विदूषकादीना" (नाट्यशास्त्र १७, ५१)।

सौरसेनी भाषा की उत्पत्ति<sup>१</sup> सूरसेन देश अर्थात् मथुरा प्रदेश से हुई है।

वररुचि ने अपने व्याकरण में संस्कृत को ही सौरसेनी भाषा की प्रकृति अर्थात् मूल कहा है<sup>२</sup>। किन्तु यह हम पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि किसी प्राकृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुई है। सुतरा, सौरसेनी प्राकृत का मूल भी वैदिक या लौकिक संस्कृत नहीं है। सौरसेनी और संस्कृत ये दोनों ही वैदिक युग में प्रचलित सूरसेन अथवा मध्यदेश की कथ्य प्राकृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। संस्कृत भाषा पाणिनि-प्रभृति के व्याकरण द्वारा नियन्त्रित होने के कारण परिवर्तन-हीन मृत-भाषा में परिणत हुई। वैदिक काल की सौरसेनी ने प्राकृत-व्याकरण द्वारा नियन्त्रित न होने के कारण क्रमशः परिवर्तित होते हुए पिछले समय की सौरसेनी भाषा का आकार धारण किया। पिछले समय की यह सौरसेनी भी बाद में प्राकृत-व्याकरणों के द्वारा जकड़े जाने के कारण संस्कृत की तरह परिवर्तन-शून्य होकर मृत-भाषा में परिणत हुई है।

अश्वघोष के नाटकों में जिस सौरसेनी भाषा के उदाहरण मिलने हैं वह अगोक्षलिपि की सम-सामयिक कही जा सकती है। भास के नाटकों की सौरसेनी का और जैन सौरसेनी का समय सम्भवतः ख्रिस्त की प्रथम या द्वितीय शताब्दी मान्य होता है।

महाराष्ट्री भाषा के साथ सौरसेनी भाषा का जिस-जिस अंश में भेद है वह नीचे दिया जाता है। इसके सिवा महाराष्ट्री भाषा के जो लक्षण उसके प्रकरण में दिये जायेंगे उनमें महाराष्ट्री के साथ सौरसेनी का कोई भेद नहीं है। इन भेदों पर यह ज्ञात होता है कि अनेक स्थलों में महाराष्ट्री की अपेक्षा सौरसेनी का संस्कृत के साथ पार्थक्य कम और सादृश्य अधिक है।

#### वर्ण-भेद

- स्वर वर्णों के मध्यवर्ती असयुक्त व और द के स्थान में द होता है, यथा—रजत = रजद, गदा = गदा।
- स्वरो के बीच असयुक्त थ का ह और थ दोनों होते हैं, जैसे—नाथ = एाथ, एाह।
- यं के स्थान में व्य और व होता है यथा—मार्य = ग्रय्य, ग्रव, सूर्य = सुय्य, सुव।

#### नाम-विभक्ति

- पञ्चमी के एकवचन में दो और दु ये दो ही प्रत्यय होते हैं और इनके योग में पूर्व के अकार का दीर्घ होता है, यथा—जिनात् = जिणादो, जिणादु।

#### आख्यात

- ति और ते प्रत्ययों के स्थान में दि और दे होता है, जैसे—हसदि, हसदे, रमदि, रमदे।
- भविष्यत्काल के प्रत्यय के पूर्व में स्ति लगता है, यथा—हसिस्तिदि, करिस्तिदि।

#### सन्धि

- अन्त्य मकार के बाद इ और ए होने पर ए का वैकल्पिक आगम होता है, यथा—युक्त इदम् = जुत्तं एिमं, जुत्तमिमं, एवम् एत्त् = एवं एेदं, एवमेदं।

#### कृदन्त

- त्वा प्रत्यय के स्थान में इम्, इण और ता होते हैं, यथा—पठिन्वा = पठिम्, पठिइण, पठिता।

१. पञ्चवर्णासूत्र के “मोक्षियमइया (?मई य) चेदो वीयभयं सिधुसोवीरा। मथुरा य सूरसेणा पावा भगी य मासपुरिवट्टा” (पत्र ६१)। इस पाठ पर “वेदिपु शुक्तिनावती, वीतभयं सिन्धुपु, सौवीरेपु मथुरा, सूरसेनेपु पापा, भङ्गे(?ङ्गि)पु मासपुरिवट्टा” इस तरह व्याख्या करते हुए आचार्य मलयगिरि ने सूरसेन देश की राजधानी पावा वतलाकर आजकल के बिहार प्रदेश को ही सूरसेन कहा है। नेमिचन्द्रसूरि ने अपने प्रवचनसारोद्धारनामक ग्रंथ में पञ्चवर्णासूत्र के उक्त पाठ को श्रविकल रूप में उद्धृत किया है। इसकी टीका में श्रीसिद्धनेनसूरि ने आचार्य मलयगिरि की उक्त व्याख्या को ‘श्रुतिव्यवहृत’ कहकर, उक्त मूल पाठ की व्याख्या इस तरह की है—‘शुक्लीमती नगरी चेदयो देश, वीतभयं नगर सिन्धुसोवीरा जनपद, मथुरा नगरी सूरसेनाख्यो देश, पापा नगरी भङ्गयो देश, मासपुरी नगरी वर्तो देश’ (दि० ला० संस्करण, पत्र ४४६)।

२. प्राकृतप्रकाश ( १२, २ )।

## (८) मागधी

मागधी प्राकृत के सर्व-प्राचीन निदर्शन अशोक-साम्राज्य के उत्तर और पूर्व भागों के खालसी, मिरट, लौरिया ( Lauriya ), सहसराम, बरबर ( Barabar ), रामगढ़, बौलि और जौगढ़ ( Jaugadha ) प्रभृति स्थानों के अशोक-शिलालेखों में पाये जाते हैं। इसके बाद नाटकीय प्राकृतों में मागधी भाषा के उदाहरण देखे जाते हैं। नाटकीय मागधी के सर्व-प्राचीन नमूने अश्वघोष के नाटकों के खण्डित अंशों में मिलते हैं। भास के नाटकों में, कालिदास के नाटकों में और मृच्छकटिक आदि नाटकों में मागधी भाषा के उदाहरण विद्यमान हैं।

वररुचि के प्राकृतप्रकाश, चण्ड के प्राकृतलक्षण, हेमचन्द्र के सिद्धहेमचन्द्र (अष्टम अध्याय), क्रमदीश्वर के सक्षिप्त-सार, लक्ष्मीधर की पद्मभाषाचन्द्रिका और मार्कण्डेय के प्राकृतसर्वस्व आदि प्रायः समस्त प्राकृत-व्याकरणों में मागधी भाषा के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं।

भरत के नाट्यशास्त्र में मागधी भाषा का उल्लेख है और उन्होंने नाटक में राजा के अन्तःपुर में रहनेवाले, सुरंग सोदनेवाले, कलवार, अश्वपालक वगैरह पात्रों के लिए और विपत्ति में नायक के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करने को कहा है। परन्तु मार्कण्डेय द्वारा अपने प्राकृतसर्वस्व में उद्धृत किये हुए कोहल के “रावतमिबुजपणकचेटाद्या मागधीं प्राहु” इस वचन से मालूम होता है कि भरत के कहे हुए उक्त पात्रों के अतिरिक्त भिक्षु, क्षपणक आदि अन्य लोग भी इस भाषा का व्यवहार करते थे। रुद्रट, वाग्भट, हेमचन्द्र आदि आलङ्कारिकों ने भी अपने-अपने अलङ्कार-ग्रन्थों में इस भाषा का उल्लेख किया है।

मगध देश ही मागधी भाषा का उत्पत्ति-स्थान है। मगध देश की सीमा के बाहर भी अशोक के शिलालेखों में जो इसके निदर्शन पाये जाते हैं उसका कारण यह है कि मागधी भाषा उस समय राज भाषा होने के कारण मगध के बाहर भी इसका प्रचार हुआ था। सम्भवतः राज-भाषा होने के कारण ही नाटकों में सर्वत्र ही राजा के अन्तःपुर के लोगों के लिए इस भाषा का व्यवहार करने का नियम हुआ था। प्राचीन भिक्षु और क्षपणक भी मगध के ही निवासी होने से, सम्भव है, नाटकों में इनकी भाषा भी मागधी ही निर्दिष्ट की गई है।

वररुचि ने अपने प्राकृत व्याकरण में मागधी की प्रकृति—मूल होने का सम्मान सौरसेनी को दिया है<sup>१</sup>। इसीका अनुसरण कर मार्कण्डेय ने भी सौरसेनी से ही मागधी की सिद्धि कही है<sup>२</sup>। किन्तु मागधी और सौरसेनी आदि प्रादेशिक भाषाओं का भेद अशोक के शिलालेखों में भी देखा जाता है। इससे यह सिद्ध है कि ये सब प्रादेशिक भेद प्राचीन और समसामयिक हैं, एक प्रदेश की भाषा से दूसरे प्रदेश में उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसे सौरसेनी मध्यदेश में प्रचलित वैदिक युग की कथ्य भाषा से उत्पन्न हुई है<sup>३</sup> वैसे मागधी ने भी उस कथ्य भाषा से जन्म-ग्रहण किया है जो वैदिककाल में मगध देश में प्रचलित थी।

अशोक-शिलालेखों की और अश्वघोष के नाटकों की मागधी भाषा प्रथम युग की मागधी भाषा के निदर्शन हैं। भास के और परवर्ती काल के अन्य नाटकों की और प्राकृत-व्याकरणों की मागधी मध्य-युग की मागधी भाषा के उदाहरण हैं।

शाकारी, चाण्डाली और शावरी ये तीन भाषाएँ मागधी के ही प्रकार-भेद—रूपान्तर हैं। भरत ने शाकारी भाषा का व्यवहार शबर, शक आदि और उसी प्रकृति के अन्य लोगों के लिए कहा है<sup>४</sup>, किन्तु मार्कण्डेय ने राजा के सल्लेख की भाषा शाकारी बतलाई है<sup>५</sup>। भरत पुष्कस आदि जातियों की व्यवहार-भाषा को चाण्डाली और अगारकार, व्याघ्र-

१. “मागधी तु नरेन्द्राणामन्त पुरनिवासिनाम्” (नाट्यशास्त्र १७, ५०)।

“सुरङ्गाखनकादीना शुण्डकाराश्वरक्षिणाम् । व्यसने नायकाना स्यादात्मरक्षामु मागधी ॥” (नाट्यशास्त्र १७, ५६)।

२. “प्रकृति सौरसेनी” (प्राकृतप्रकाश ११, २)।

३. “मागधी सौरसेनीत” (प्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ १०१)।

४. “शबरणां शकारादीना तत्त्वभावध यो गण । शकारभाषा योक्तव्या” (नाट्यशास्त्र १७, ५३)।

५. “शकारस्वयेय शाकारी, शकारध

‘रासोज्ज्वालाघ्राता श्यालस्त्वैश्वर्यसपद्म ।

मदमूर्त्तानिमानी शकार इति दुष्कूलोत्त त्वात् इत्युक्ते” (प्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ १०५)।

शाकरी आदि भाषाएँ कठहार और यन्त्र-जीवी लोगों की भाषा को शाकरी कहते हैं<sup>१</sup>। इन तीनों भाषाओं के जो लक्षण और उदाहरण मार्कण्डेय के प्राकृत व्याकरण में और नाटकों के उक्त पात्रों की भाषा में पाये जाते हैं उनमें और इतर प्राकृत-व्याकरणों की मागधी भाषा के लक्षण और उदाहरणों में तथा नाटकों के मागधी-भाषा-भाषी पात्रों की भाषा में इतना कम भेद और इतना अधिक साम्य है कि उक्त तीन भाषाओं को मागधी से अलग नहीं कही जा सकतीं। यही कारण है कि हमने प्रस्तुत कोष में इन भाषाओं का मागधी में ही समावेश किया है।

मृच्छकटिक के पात्र माथुर और दो द्यूतकारों की भाषा को 'ढक्की' नाम दिया गया है। यह भी मागधी भाषा का ही एक रूपान्तर प्रतीत होता है। मार्कण्डेय ने 'ढक्की' को ही 'टाक्की' नाम से निर्देश किया है, यह उनके वहाँ पर उद्धृत किये हुए एक श्लोक से ज्ञात होता है<sup>२</sup>। मार्कण्डेय ने पदान्त में च, तृतीया के एकवचन में ए, पञ्चमी के बहुवचन में हुम्

ढक्की या टाक्की  
भाषा

आदि जो इस भाषा के लक्षण दिए हैं उनपर से इसमें अपभ्रंश का ही विशेष साम्य नजर आता है। इस लिए मार्कण्डेय ने वहाँ पर जो यह कहा है कि 'हरिश्चन्द्र इस भाषा को अपभ्रंश मानता है'<sup>३</sup> वह मत हमें भी सगत मालूम पड़ता है।

मागधी भाषा का सौरसेनी के साथ जो प्रधान भेद है वह नीचे दिया जाता है। इसके सिवा अन्य अंशों में मागधी लक्षण भाषा साधारणतः सौरसेनी के ही अनुरूप है।

#### वर्ण-भेद

१. र के स्थान में सर्वत्र ल होता है<sup>४</sup>, यथा—र = एल, कर = कल।
२. श, ष और स के स्थान में तालञ्य श होता है, यथा शोभन = शोहरण, पुरुष = पुलिश, सारस = शालश।
३. संयुक्त ष और स के स्थान में दन्त्य सकार होता है, यथा—शुष्क = शुष्क, कट = कस्ट, स्वलति = स्वलदि, बृहस्पति = बृहस्पदि।
४. ह्र और ठ के स्थान में स्त होता है, यथा—पट्ट = पस्ट; मुट्ट = शुट्ट।
५. स्व और धं की जगह स्त होता है, जैसे—उपस्थित = उवस्तिद, सार्थ = शस्त।
६. ज, घ और य के बदले व होता है; यथा—जानाति = याणदि, दुर्जन = दुय्यण, मद्य = मय्य, मद्य = मय्य, याति = यादि, यम = यम।
७. न्य, एय, ङ और झ के स्थान में ञ्न होता है, यथा—अन्य = अन्न, पुण्य = पुन्न, प्रजा = पञ्जा, अञ्जलि = अन्नलि।
८. अनादि छ के स्थान में थ होता है, यथा—गच्छ = गथ, पिच्छिन = पिथिल।
९. झ की जगह स्क होता है<sup>५</sup>, जैसे—रक्षस = लक्ष्य, यज्ञ = यस्क।

#### नाम-विभक्ति

१. अकारान्त पुलिग-शब्द के प्रथमा के एकवचन में ए होता है, यथा—जिन. = यिणे, पुरुष = पुलिशे।
२. अकारान्त शब्द के पष्ठी का एकवचन स्म ओर ग्राह होता है, यथा—जिनस्य = यिणस्स, यिणाह।
३. अकारान्त शब्द के पष्ठी के बहुवचन में भाण और ग्राह ये दोनों होते हैं, जैसे—जिनानाम् = यिणाण, यिणाहं।
४. अस्मन् शब्द के एकवचन और बहुवचन का रूप हगे होता है।

१ "चाण्डाली पुष्पादिपु। अगारकरव्याधाना काष्ठयन्त्रोपजीविनाम्। योग्या शवरभाषा तु" (नाट्यशास्त्र १७, ५३-४)।

२ "प्रयुज्यते नाटकादौ द्यूतातिव्यवहारिभिः।

वरिणगमिर्हीनदेहेध तदाहृष्टकभाषितम्" (प्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ ११०)।

३ "हरिश्चन्द्रस्त्विमा भाषामपभ्रंश इतीच्छति" (प्राकृतसं० पृष्ठ ११०)।

४. मार्कण्डेय यह नियम वैकल्पिक मानते हैं, "रस्य लो वा भवेत्" (प्राकृतसं० पृष्ठ १०१)।

५. हेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'क्ष' की जगह जिह्वामूलिय 'क्ष' होता है, देखो हे० प्रा० ४, २६६।

## ( ९ ) महाराष्ट्री

प्राकृत काव्य और गीति की भाषा महाराष्ट्री कही जाती है। सेतुबन्ध, गाथासप्तशती, गड्डयहो, कुमारपालचरित प्रभृति ग्रन्थों में इस भाषा के निर्दर्शन पाये जाते हैं। गाथा (गीति-साहित्य) में महाराष्ट्री प्राकृत ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी कि वाद के नाटकों में गद्य में सौरसेनी बोलनेवाले पात्रों के लिए संगीत या पद्य में महाराष्ट्री भाषा का व्यवहार करने का रिवाज सा बन गया था। यही कारण है कि कार्ल्यास से लेकर उसके बाद के सभी नाटकों में पद्य में प्रायः महाराष्ट्री भाषा का ही व्यवहार देखा जाता है।

चंड ने अपने प्राकृतलक्षण में 'महाराष्ट्री' इस नाम का उल्लेख और इसके विशेष लक्षण न देकर भी आर्य प्राकृत अथवा अर्धमागधी के और जैन महाराष्ट्री के लक्षणों के साथ साधारण भाव से इसके लक्षण दिए हैं। वररुचि ने अपने प्राकृत-व्याकरण में इस भाषा के 'महाराष्ट्री' नाम का उल्लेख किया है और इसके विशेष लक्षण और उदाहरण दिए हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में 'महाराष्ट्री' नाम का निर्देश न कर 'प्राकृत' इस साधारण नाम से महाराष्ट्री के ही लक्षण और उदाहरण बताए हैं। क्रमदीर्घर का सक्षिप्तसार, त्रिविक्रम की प्राकृतव्याकरणसूत्रवृत्ति, लक्ष्मीधर की षडभाषाचन्द्रिका और मार्कण्डेय का प्राकृतसर्वस्व प्रभृति प्राकृत-व्याकरणों में इस भाषा के लक्षण और उदाहरण पाये जाते हैं। चंड-भिन्न सभी प्राकृत वैयाकरणों ने महाराष्ट्री का मुख्य रूप से विवरण दिया है और सौरसेनी, मागधी प्रभृति भाषाओं के महाराष्ट्री के साथ जो भेद हैं वे ही बतलाए हैं।

संस्कृत के अलंकार-शास्त्रों में भी भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाओं का उल्लेख मिलता है। भरत के नाट्य-शास्त्र में 'दाक्षिणात्या' भाषा का निर्देश है, किन्तु इसके विशेष लक्षण नहीं दिए गए हैं। संभवतः वह महाराष्ट्री भाषा ही हो सकती है, क्योंकि भरत ने महाराष्ट्री का अला उल्लेख नहीं किया है। परन्तु मार्कण्डेय के प्राकृतसर्वस्व में उद्धृत प्राकृतचन्द्रिका के वचन में और प्राकृतसर्वस्व के खुद मार्कण्डेय के वचन में महाराष्ट्री और दाक्षिणात्या का भिन्न-भिन्न भाषा के रूप में उल्लेख किया गया है। दण्डी के काव्यादर्श के

'महाराष्ट्राश्रया भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः ।

सागर सूक्तिरलाना नेतुवन्वादि यन्मयम् ॥" (१, ३४) ।

इस श्लोक में महाराष्ट्री भाषा का और उसकी उत्कृष्टता का स्पष्ट उल्लेख है। दण्डी के समय में महाराष्ट्री प्राकृत का इनना उल्काप हुआ था कि इसके परवर्ती अनेक ग्रन्थकारों ने केवल इस महाराष्ट्री के ही अर्थ में उस प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है जो सामान्यतः सर्व प्रादेशिक भाषाओं का वाचक है। रुद्रट का काव्यालंकार, चाणक्यलंकार, पाइअलच्छी-नाममाला, हेमचन्द्र का प्राकृत-व्याकरण प्रभृति ग्रन्थों में महाराष्ट्री के ही अर्थ में प्राकृत शब्द व्यवहृत हुआ है। अलंकार-शास्त्र-भिन्न पाइअलच्छीनाममाला और देशीनाममाला इन कोष-ग्रन्थों में भी महाराष्ट्री के उदाहरण हैं।

डॉ. हॉर्नल के मत में महाराष्ट्री भाषा महाराष्ट्र देश में उत्पन्न नहीं हुई है। वे मानते हैं कि महाराष्ट्री का अर्थ 'विशाल राष्ट्र की भाषा' है और राजपूताना तथा मध्यदेश प्रभृति इसी विशाल राष्ट्र के अन्तर्गत हैं, इसीसे 'महाराष्ट्री' का उत्पत्ति-स्थान मुख्य प्राकृत कही गई है। किन्तु दण्डी ने इस भाषा को महाराष्ट्र देश की ही भाषा कही है। सर प्रियर्सन के मत में महाराष्ट्री प्राकृत से ही आधुनिक मराठी भाषा उत्पन्न हुई है। इससे महाराष्ट्री प्राकृत का उत्पत्ति-स्थान महाराष्ट्र देश ही है यह बात निःसन्देह कही जा सकती है।

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में महाराष्ट्र को ही 'प्राकृत' नाम दिया है और इसकी प्रकृति संस्कृत कही है।

प्रकृति

इसी तरह चण्ड, लक्ष्मीधर, मार्कण्डेय आदि वैयाकरणों ने साधारण रूप से सभी प्राकृत भाषाओं का मूल

(प्रकृति) संस्कृत बताया है। किन्तु हम यह पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित कर आए हैं कि कोई भी प्राकृत भाषा संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि वैदिक काल में भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रचलित आर्यों की कथ्य भाषाओं

१ "शेषं महाराष्ट्रीवत्" (प्राकृतप्रकाश १२, ३२) ।

२. "महाराष्ट्रो तथावन्तो सौरसेन्यर्धमागधी । वाहीकी मागधी प्राच्यत्यष्टी ता दाक्षिणात्यया ॥" (प्रा० सं० पृष्ठ २) ।

३ देखो प्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ २ और १०४ ।

से ही सभी प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, सुतरा महाराष्ट्री भाषा की उत्पत्ति प्राचीन काल के महाराष्ट्र-निवासी आर्यों की कथ्य भाषा से हुई है।

कौन समय आर्यों ने महाराष्ट्र में सर्व-प्रथम निवास किया था, इस बात का निर्णय करना कठिन है, परन्तु अशोक के पहले प्राकृत भाषा महाराष्ट्र देश में प्रचलित थी, इस विषय में किसी भी मत भेद नहीं है। उस समय महाराष्ट्र देश में प्रचलित प्राकृत से क्रमशः काव्यीय और नाटकीय महाराष्ट्री भाषा उत्पन्न हुई है। प्राकृतप्रकाश का कर्ता वररुचि यदि वृत्तिकार कात्यायन से अभिन्न व्यक्ति हो तो यह स्वीकार करना होगा कि महाराष्ट्री ने अन्ततः ख्रिस्त-पूर्व दो सौ वर्ष के पहले ही साहित्य में स्थान पाया था। लेकिन महाराष्ट्री भाषा के तद्भव शब्दों में व्यञ्जन वर्णों के लोप की बहुलता देखने से यह विश्वास नहीं होता कि यह भाषा इतनी प्राचीन है। वररुचि का व्याकरण संभवतः ख्रिस्त के बाद ही रचा गया है। जन अर्धमागधी और जैन महाराष्ट्री में महाराष्ट्री प्राकृत के प्रभाव का हमने पहले उल्लेख किया है। महाराष्ट्री भाषा में रचित जो मव साहित्य इस समय पाया जाता है उसमें ख्रिस्त के बाद की महाराष्ट्री के ही निदर्शन देखे जाते हैं। प्राचीन महाराष्ट्र का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। प्राचीन महाराष्ट्री में वाद की महाराष्ट्री की तरह व्यञ्जन-वर्ण-लोप की अधिकता नहीं थी, इस बात के कुछ निदर्शन चण्ड के व्याकरण में मिलते हैं। जैन अर्धमागधी और जैन महाराष्ट्री में प्राचीन महाराष्ट्री भाषा का सादृश्य रक्षित है।

भरत ने नाट्यशास्त्र में आवन्ती और वाहलीकी भाषा का उल्लेख कर नाटकों में धूर्त पात्रों के लिए आवन्ती का भावन्ती और वाहलीकी और द्यूतकारों के लिए वाहलीकी का प्रयोग कहा है। मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व में 'आवन्ती महाराष्ट्री के अन्तर्गत है स्यान्महाराष्ट्रीशौरसेन्योस्तु सकरान्' और 'आवन्त्यामेव वाहलीकी किन्तु रस्यात्र लो भवेत्' यह कह कर इनका संक्षिप्त लक्षण-निर्देश किया है। मार्कण्डेय ने आवन्ती भाषा के जो लोप के स्थान ने तृण और भविष्यत् काल के प्रत्यय के स्थान में व और वा प्रभृति लक्षण वतलाए हैं वे महाराष्ट्री के साथ साधारण हैं। उनके दिए हुए किराद, वेदस, पेच्छदि प्रभृति उदाहरणों में जो तकार के स्थान में दकार है वहाँ शौरसेनी के साथ इसका (आवन्ती का) सादृश्य है परन्तु वह भी सर्वत्र नहीं है, जैसे उनके दिए हुए होइ, मुच्चइ, लिच्चइ, भरणए आदि उदाहरणों में। इसी तरह वाहलीकी में जो र का ल होता है वही एकमात्र मागधी का सादृश्य है। इसके सिवा सभी अणो में यह भी आवन्ती की तरह महाराष्ट्री के ही सादृश्य है। सुतरा, ये दोनों भाषाएँ महाराष्ट्री के ही अन्तर्गत कही जा सकती हैं। इससे हमने भी इनका इस कोष में अलग निर्देश नहीं किया है।

संस्कृत भाषा के साथ महाराष्ट्री भाषा के वे भेद नीचे दिए जाते हैं जो महाराष्ट्री और संस्कृत के साथ अन्य प्राकृत लक्षण भाषाओं के सादृश्य और पार्थक्य की तुलना के लिए भी अधिक उपयुक्त हैं।

### स्वर

- अनेक जगह भिन्न स्वरों के स्थान में भिन्न-भिन्न स्वर होते हैं, जैसे—समृद्धि = सामिद्धि, ईपत् = ईधि, हर = हीर, ध्वनि = झुणि, शय्या = सेज्जा, पच = पोम्म, यया = जह सदा = सइ, स्थान = थोण, सास्ना = सुण्हा, धासार = ऊमार, ग्राह्य = गेज्क, शाली = शोली, इति = इम्, पयिन् = पइ, जिह्वा = जोहा, द्विवचन = दुवअण, पिएड = पेंड, द्विवाकृत = दोहाइअ, हरीतकी = हरडई, कश्मीर = कम्हार, पानीय = पाणिअ, जीर्ण = जुण्ण, हीन = हूण, पीवृष = पेअस, मुकुल = मवल, भ्रुकुटि = भिठडि, क्षुत = क्षीअ, मुसल = मूसल, तुण्ड = तोड, सूक्ष्म = सएह, उदयूढ = उव्नीढ, वातूल = वावल, नूपूर = एठर, तूणीर = तोणीर, वेदना = विमणा, स्तेन = थूण, मनोहर = मणहर, गो = गउ, गाग्र, सोच्छ्वास = सूसास।
- महाराष्ट्री में ऋ, ॠ, ल, लृ ये स्वर सर्वथा लुप्त हो गये हैं।
- ऋ के स्थान में भिन्न-भिन्न स्वर एव रि होता है, यथा—तृण = तण, मृदुक = माउक्क, कृपा = किवा, मातृ = माइ, माउ, वृत्तान्त = वुत्त, मृपा = मुसा, मूसा, मोसा, वृत्त = विट, वेंट, वोंट, ऋनु = उउ, रिठ, ऋद्धि = रिद्धि, ऋक्ष = रिच्छ, सदृश = सरिस, दृप्त = दरिअ।
- ल के स्थान में इलि होता है, जैसे—कल्प = किलित्त, कल्पन = किलिएण।
- ऐ का प्रयोग भी प्रायः महाराष्ट्री में नहीं है। उसके स्थान में सामान्यतः ए और विशेषतः अइ होता है, यथा—शैल = सेल, ऐरावण = एरावण, वैद्य = वेअ, वैद्यव्य = वेहव्व, सेन्य = नेएण, सदृएण, कैलास = वेलास, कइलाम, देव = देव्व, दइव, ऐश्वर्य = अइसरिअ, दैन्य = दइएण।

६. श्री का व्यवहार भी प्रायः महाराष्ट्र में नहीं है। उसके स्थान में सामान्यतः श्री और विशेष स्थलों में उ या अउ होता है, यथा—कौमुदी = कोमुई, शौवन = जोव्वण, दौवारिक = दुवारिम, पीनोमी = पुनोमी, कौरव = कउरव, गौड = गउड, मौघ = सव्ह ।

#### असंयुक्त व्यञ्जन

१. स्वरों के मध्यवर्ती क, ग, च, ज, त, द, य, व इन व्यञ्जनों का प्रायः लोप होता है, जैसे क्रमशः—लोक = लोम, नग = एग्न शची = सई, रजत = रज्ज, यती जई, गदा = गगा, वियोग = विमोघ लावण्य = लावण्य ।
२. स्वरों के बीच के ख, घ, य, ष और भ के स्थान में ह होता है, यथा क्रमशः—शाखा = साहा, खापते = लाहइ, नाय = राह, साधु = साह, सभा = सहा ।
३. स्वरों के बीच के ट का ड होता है, यथा—भट = मह घट = घड ।
४. स्वरों के बीच के ठ का ड होता है, जैसे—मठ = मड, पठति = पडइ ।
५. स्वरों के बीच के ड का ल प्रायः होता है, यथा—गरुड = गरुल, तडाय = तलाम ।
६. स्वरों के बीच के त्र का अनेक स्थल में ड होता है, यथा—प्रतिभानस = पडिहास, प्रभृति = पडिडि, व्यापृत = वावड, पताका = पडागा ।
७. न के स्थान में सर्वत्र ए होता है, यथा—कनक = कणम, वचन = वमण, नर = एर, नदी = एई, ग्रन्थ = ग्रण, दैन्य = दइण ।
८. दो स्वरों के मध्यवर्ती प का कहीं-कहीं व और कहीं-कहीं लोप होता है, यथा—शपय = सवह, शप = साव, उपसर्ग = उवसर्ग, रिपु = रिड, कपि = कइ ।
९. स्वरों के बीच के फ के स्थान में कहीं-कहीं भ, कहीं-कहीं ह और कहीं-कहीं ये दोनों होते हैं, यथा—रेफ = रेभ, शिफा = सिभा, मृनाफन = मृत्ताहल, सफल = समल, सहल, शेफालिका = सेमालिमा, सेहालिमा ।
१०. स्वरों के मध्यवर्ती व का व होता है, जैसे—मलावू = मलावू, सबल = सबल ।
११. आदि के य का ज होता है, यथा यम = जम, यशस् = जस, याति = जाइ ।
१२. कृदन्त के मनीय और य प्रत्यय के य का ज होता है, जैसे—करणीय = करणज, पेय = पेज ।
१३. अनेक जगह र का ल होता है, यथा—हरिद्रा = हलिद्रा, दरिद्र = दलिद्र, मुषिष्ठिर = मुडिष्ठिर, भंगार = भंगाल ।
१४. श और प का सर्वत्र स होता है, यथा—शब्द = सड, विश्राम = वीसाम, पुरुष = पुरिस, सत्य = सास, शेष = सेस ।
१५. अनेक जगह ह का ष होता है, यथा—दाह = दाष, सिंह = सिष, सहार = संघार ।
१६. कहीं-कहीं श, प और स का छ होता है, जैसे—शर्व = छाव, पड्ड = छड्ड, सुषा = छुषा ।
१७. अनेक शब्दों में स्वर सहित व्यञ्जन का लोप होता है, यथा—राजकुल = राउल, आगत = आम, कालायस = कालास, हृदय = हिम, पादपतन = पावडण, यावत् = ना, त्रयोदश = तेरह, स्वविर = घेर, वदर = वार, कदल = केल, कर्णिकार = कणेर, चतुर्दश = चौदह, मयूख = मोह ।

#### संयुक्त व्यञ्जन

१. क्ष के स्थान में प्रायः ख और कहीं-कहीं छ और क होता है, जैसे—क्षय = खय, सक्षण = लखण, शसि = सच्छि, क्षीण = क्षीण, क्षीण ।
२. त्व, ध्व, द्ध और ष्व के स्थान में कहीं-कहीं क्रमशः च, छ, ज और क होता है, यथा—ज्ञात्वा = एषा, पृथ्वी = पिन्धी, विद्वान् = विज, बुद्ध्या = बुज्जा ।
३. ह्रस्व स्वर के परवर्ती व्य, ष्व, ल और ष के स्थान में छ होता है, जैसे—पथ्य = पच्छ, पथात् = पच्छा, उत्साह = उच्छाह, भस्तरा = भच्छरा ।

१. संस्कृत के 'भयि' शब्द का महाराष्ट्री में 'ऐ' होता है। इसके सिवा किसी किसी के मत में 'ऐ' तथा 'श्री' का भी प्रयोग होता है, जैसे—कैवव = कैभव, कौरव = कौरव (हि० प्रा० १, १) ।

२. वररुचि के प्राकृत-व्याकरण के 'नो ए सर्वत्र' (२, ४२) सूत्र के अनुसार सर्वत्र 'न' का 'ए' होता है। सेनुवन्व और गाया-शप्तशती में इसी तरह सार्वत्रिक 'ए' पाया जाता है। हेमचन्द्र आदि कई प्राकृत वैयाकरणों के मत से शब्द के आदि के 'न' का विकस्वरूप में 'ए' होता है, यथा—नदी = एई, नई, नर = एर, नर । गरुडवहो में एकार का वैकल्पिक प्रयोग देखा जाता है ।

- ४ घ, व्य और यं का व होता है, यथा—मघ = मज, जघ्य = जज, कायं = कज ।
५. व्य और घ का भ होता है, यथा—व्यान = भाण, साघ्य = सज्भ, गुह्य = गुज्भ, सख्य = सज्भ ।
६. तं का प्राय ट होता है, जैसे—नतंकी = एट्टई, कैवतं = केवट ।
७. ट के स्थान मे ठ होता है, यथा—मुटि = मुट्टि, पुट = पुट्ट, काठ = कट्ट, इष्ट = इट्ट ।
८. म्न का ए होता है, यथा—निम्न = निणएण, प्रद्युम्न = पज्जुरएण ।
९. ञ का ए और ज होता है, जैसे—ज्ञान = णाण, जाण, प्रज्ञा = परएणा, पज्जा ।
१०. स्त का थ होता है, जैसे—हस्त = हत्य, स्तोत्र = योत्त, स्तोत्र = योव ।
११. इम और म का प होता है, यथा—कुड्मल = कुंपल, रुन्निमणी = रुन्पिणी ।
१२. ष्य और स्व का फ होता है, यथा—पुष्य = पुष्फ स्पन्दन = फदण ।
१३. ह्व का भ होता है, यथा—जिह्वा = जिन्मा, विह्वल = विव्मल ।
१४. न्म और र्म का म होता है, जैसे—जन्मन् = जम्म, मन्मथ = मम्मह, युग्म = जुज्म, तिग्म = तिमम ।
१५. श्म, ष्म, स्म और ह्य का म्ह होता है, यथा—काश्मीर = कम्हार, ग्रीष्म = गिमह, विष्मय = विम्हम, ब्राह्मण = वम्हण ।
१६. थ, ष्य, ञ, ह, ह्र और क्षण के स्थान मे रह होता है यथा—प्रश्न = परह, उष्य = उरह, स्नान = एहाण, वहि = वरिह, पूर्वाह्न = पुष्वएह, तीक्ष्ण = तिरह ।
१७. ह्र का ल्ह होता है यथा—प्रहाद = पल्हाअ, कल्हार = कल्हार ।
१८. सयोग मे पूर्ववर्ती क, ग, ट, ड, त, द, प, य, ष और स का लोप होता है, जैसे—भुक्त = भुत्त, मुग्ध = मुद्ध, पट्पद = छप्पअ, खड्ग = खग, उत्पल = उप्पल, मुद्गर = मुग्गर, सुप्त = सुत्त, निथल = निच्चल, निष्ठुर = निट्ठुर, खलित = खलिअ ।
१९. सयोग में परवर्ती म, न और य का लोप होता है, यथा—म्पर = सर, लग्न = लग्ग, व्याघ = वाह ।
२०. सयोग मे पूर्ववर्ती और परवर्ती सभी ल, व और र का लोप होता है, यथा—उल्का = उक्का, विक्रव = विकक्व, शब्द = मद्, पक्क = पक्क, अर्क = अक्क, चक्र = चक्क ।
२१. सयुक्त श्रक्षरों के स्थान मे जो-जो आदेश ऊपर कहा है उसका और सयुक्त व्यञ्जन के लोप होने पर जो-जो व्यञ्जन वाकी रहता है उमका, यदि वह शब्द के आदि में न हो तो, द्वित्व होता है, जैसे—ज्ञात्वा = णात्वा, मघ = मज्ज, भुक्त = भुत्त, उल्का = उक्का । परन्तु वह आदेश अथवा शेष व्यञ्जन यदि वर्ग का द्वितीय अथवा चतुर्थ अक्षर हो तो द्वित्व न होकर उसके पूर्व में आदेश अथवा शेष व्यञ्जन के अनन्तर-पूर्व व्यञ्जन का आगम होता है, यथा—लक्षण = लक्खण, पथान् = पच्छा, इष्ट = इट्ट, मुग्ध = मुद्ध ।

### विश्लेषण

१. हं, शं, पं के मध्य मे और संयोग मे परवर्ती ल के पूर्व मे स्वर का आगम होकर सयुक्त व्यञ्जनों का विश्लेषण किया जाता है, यथा—अहंत्वं = अरह, अरिह, अरुह, भादशं = भायरिम, हर्षं = हरिस; क्लिष्ट = कलिट्ट ।

### व्यत्यय

१. अनेक शब्दों में व्यञ्जन के स्थान का व्यत्यय होता है, यथा—करेणू = कणेह, भालान = भाणाल, महाराष्ट्र = मरहट्ट, हरिताल = हलिआर, लघुक = हलुअ, ललाट = एडाल, गुह्य = गुह्द, सख्य = सख्द ।

### सन्धि

१. समास में कहीं-कहीं ह्रस्व स्वर के स्थान मे दीर्घ और दीर्घ के स्थान में ह्रस्व होता है, यथा—अन्तर्वेदि = अन्तावेद्, पतिगृह = पडहर, यमुनातट = जंउणअड, नदीतोत = उड्तोत ।
२. स्वर पर रहने पर पूर्व स्वर का लोप होता है, जैसे—त्रिदेश = त्रिअसीस ।
३. सयुक्त व्यञ्जन का पूर्व स्वर ह्रस्व होता है, जैसे—आस्य = अत्स, मुनीन्द्र = मुणिण्द, चूर्ण = चुएण, नरेन्द्र = एरिद, म्लेच्छ = मिलिच्छ, नीलोत्पल = एणिलुप्पल ।

### सन्धि-निषेध

१. उद्ग्रत ( व्यञ्जन का लोप होने पर अवशिष्ट रहे हुए ) स्वर का पूर्व स्वर के साथ प्रायः सन्धि नहीं होती है, यथा—निशाकर = निशाअर, रजनीकर = रअणीअर ।



२. एक पद में स्वरों की सन्धि नहीं होती है, जैसे—पाद = पाप्, गति = गड, नगर = एग्नर ।
३. इ, ई, और ऊ की, असमान स्वर पर रहने पर, सन्धि नहीं हाती है, यथा—वग्नेवि भवयासो, दणुइंदो ।
४. ए और ओ की परवर्ती स्वर के साथ सन्धि नहीं होती है, यथा—रुने प्रावंधो, प्रालन्विकमो एरिह ।
५. आख्यात के स्वर की सन्धि नहीं होती है, जैसे—होइ इह ।

### नाम-विभक्ति

१. अकारान्त पुलिगि शब्द के एकवचन में ओ होता है, जैसे—जिन = जिणो, वृक्ष = वृक्षो ।
२. पञ्चमी के एकवचन में तो ओ, उ, हि और लोप होना है और तो-भिन्न अन्य प्रत्ययों के प्रसंग में अकार का आकार होता है, जैसे—जिनात् = जिणात्तो, जिणाओ जिणाउ, जिणाहि, जिणा ।
३. पञ्चमी के बहुवचन का प्रत्यय तो ओ, उ और हि होता है, एव तो से अन्य प्रत्यय में पूर्व के अ का आ होता है, हि के प्रसंग में ए भी होता है, यथा—जिणत्तो, जिणाओ, जिणाउ, जिणाहि, जिणेहि ।
४. पञ्चमी के एकवचन के प्रत्यय के स्थान में हितो और बहुवचन के प्रत्यय के स्थान में हितो और सुतो इन स्वतन्त्र शब्दों का भी प्रयोग होता है, यथा—जिनात् = जिणा हितो, जिनेम्य = जिणा हितो, जिणे हितो, जिणा सुतो, जिणे सुतो ।
५. षष्ठी के एकवचन का प्रत्यय त्त होता है, यथा—जिणत्स, पुणित्स, तत्स ।
६. अस्मन् शब्द के प्रथमा के एकवचन के रूप म्मि, म्मि, म्मि, हं, अह और अह्यं होता है ।
७. अस्मन् शब्द के प्रथमा के बहुवचन के रूप अम्ह, अम्हे, अम्हो, मो, वय और मे होता है ।
८. अस्मन् शब्द के षष्ठी का बहुवचन ए, ए, मज्ज, अम्ह, अम्ह अम्हे, अम्हो, अम्हाण, ममाण, ममाण और मज्जाण होता है ।
९. युष्मन् शब्द के षष्ठी का एकवचन तद्, तु, ते, तुम्ह, तुह, तुहं, तुव, तुम, तुमो, तुमाइ, दि, दे, इ, ए, तुव्म, तुम्ह, तुज्म, उव्म, उम्ह, उज्म और उह होता है ।

### लिङ्ग-व्यत्यय

१. मस्कृत में जो शब्द केवल पुलिगि है, उनमें से कई एक महाराष्ट्री में स्त्रीलिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग भी हैं, यथा—प्रश्न = परहो, परहा; गुणा = गुणा, गुणाई, देवा = देवा, देवारि ।
२. अनेक जगह स्त्रीलिङ्ग के स्थान में पुलिगि होता है, यथा—शरत् = सरओ, प्रावृट् = पारसो, विद्युता = विज्जुणा ।
३. संस्कृत के अनेक क्लीबलिङ्ग शब्दों का प्रयोग महाराष्ट्री में पुलिगि और स्त्रीलिङ्ग में भी होता है, यथा—यश = जसो, जन्म = जम्मो, मन्त्रि = मन्त्री, पृष्ठन् = पिट्टो, चौयम् = चोरिमा ।

### आख्यात

१. ति और ते प्रत्ययों के त का लोप होता है, जैसे—हसति = हसइ, हसए, रमते = रमइ, रमए ।
२. परत्नैपद और आत्मनेपद का विभाग नहीं है, महाराष्ट्री में सभी धातु उभयपदी की तरह हैं ।
३. भूतकाल के ह्यस्तन, अयतन और परोक्ष विभाग न होकर एक ही तरह के रूप होते हैं और भूतकाल में आख्यात की जगह त-प्रययान्त कृदन्त का ही प्रयोग अधिक होता है ।
४. भविष्यत्काल के भी संस्कृत की तरह स्वस्तन और भविष्यत् ऐसे दो विभाग नहीं हैं ।
५. भविष्यत्काल के प्रत्ययों के पहले हि होता है, यथा—हसिष्यति = हसिहिइ, करिष्यति, = करिहिइ ।
६. वर्तमान काल के, भविष्यत्काल के और विधि-लिङ्ग और आज्ञार्थक प्रत्ययों के स्थान में ज्ज और ज्जा होता है, यथा—हसति, हसिष्यति, हसेत्, हसतु = हसेज्ज, हसेज्जा ।
७. भाव और कर्म में इम और इज्ज प्रत्यय होते हैं, यथा—हस्यते = हसीमइ, हसिज्जइ ।

### कृदन्त

१. शीलाद्यर्थक दु-प्रत्यय के स्थान में इर होता है, यथा—गन्तु = गमिर, नमनशील = रामिर ।
२. त्वा-प्रत्यय के स्थान में तुम्, अ, तूण, तुप्राण और ता होता है, जैसे—पठित्वा = पठिउ, पठिम, पठिज्जण, पठिउमाण, पठित्ता ।

### तद्धित

१. त्व-प्रत्यय के स्थान में त्त और त्तण होता है, यथा—देवत्व = देवत्त, देवत्तण ।

## (१०) अपभ्रंश

महर्षि पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि "भूयासोऽपशब्दा अलीयास शब्दा । एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशा , चक्षया—गौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्येवमादयोऽपभ्रंशा " अर्थात् अपशब्द बहुत और शब्द (शुद्ध) थोड़े हैं, क्योंकि एक एक शब्द के बहुत अपभ्रंश हैं, जैसे 'गौ' इस शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रंश हैं।

'अपभ्रंश' शब्द का सामान्य और विशेष अर्थ यहाँ पर 'अपभ्रंश' शब्द अपशब्द के अर्थ में ही व्यवहृत है और अपशब्द का अर्थ भी 'संस्कृत-व्याकरण से असिद्ध शब्द' है, यह स्पष्ट है। उक्त उदाहरणों में 'गावी' और 'गोणी' ये दो शब्दों का प्रयोग प्राचीन जैन-सूत्र-ग्रन्थों में पाया जाता है और चण्ड तथा आचार्य हेमचन्द्र आदि प्राकृत-वैयाकरणों ने भी ये दो शब्द अपने-अपने प्राकृत-व्याकरणों में लक्ष्य-द्वारा सिद्ध किये हैं। ढण्डी ने अपने मव्यादर्श में पहले प्राकृत और अपभ्रंश का अलग-अलग निर्देश करते हुए काव्य में व्यवहृत आभीर-प्रभृति की भाषा को अपभ्रंश कही है और बाद में यह लिखा है कि 'शास्त्र में संस्कृत भिन्न सभी भाषाएँ अपभ्रंश कही गई हैं'। यहाँ पर ढण्डी ने शास्त्र-शब्द का प्रयोग महाभाष्य-प्रभृति व्याकरण के अर्थ में ही किया है। पतञ्जलि-प्रभृति संस्कृत-वैयाकरणों के मत में संस्कृत-भिन्न सभी प्राकृत-भाषाएँ अपभ्रंश के अन्तर्गत हैं, यह ऊपर के उनके लेख से स्पष्ट है। परन्तु प्राकृत-वैयाकरणों के मत में अपभ्रंश भाषा प्राकृत का ही एक अवान्तर भेद है। काव्यालंकार की टीका में नमिसाधु ने लिखा है कि "प्राकृतमेवापभ्रंश" (२, १२) अर्थात् अपभ्रंश भी शौरसेनी, मागधी आदि की तरह एक प्रकार का प्राकृत ही है। उक्त क्रमिक उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि पतञ्जलि के समय में जिस अपभ्रंश शब्द का 'संस्कृत-व्याकरण-असिद्ध (कोई भी प्राकृत)' इस सामान्य अर्थ में प्रयोग होता था उसने आगे जाकर क्रमशः 'प्राकृत का एक भेद' इस विशेष अर्थ को धारण किया है। हमने भी यहाँ पर अपभ्रंश शब्द का इस विशेष अर्थ में ही व्यवहार किया है।

अपभ्रंश भाषा के निदर्शन विक्रमोर्वशी, धर्मान्मुदय आदि नाटक-ग्रन्थों में, हरिवंशपुराण, पद्मचरित्र (स्वयंभूदेवकृत) निदर्शन मविसयत्तकहा, संजममंजरी, महापुराण, यशोवरचरित, नागकुमारचरित, कयाकोश, पार्वतपुराण, मुदयचरित्र, करकंडुचरित, जयतिहृप्रणत्तोत्र, विलासवईकहा, सणकुमारचरित्र, सुपासनाहचरित्र, कुमारपालचरित, कुमारपाल-प्रतिबोध, उपदेशतरंगिणी प्रभृति काव्यग्रन्थों में, प्राकृतलक्षण, सिद्धहेमचन्द्रव्याकरण (अष्टम अध्याय), सक्षिप्तसार, पद्मभाषाचन्द्रिका, प्राकृतसर्वस्व वगैरह व्याकरणों में और प्राकृतपिङ्गल नामक छन्द-ग्रन्थ में पाये जाते हैं।

डॉ. हॉर्नलि के मत में जिस तरह आर्य लोगों की कथ्य भाषाएँ अनार्य लोगों के मुख से उच्चारित होने के कारण प्रकृति और समय जिस विकृत रूप को धारण कर पायी थीं वह पैशाची भाषा है और वह कोई भी प्रादेशिक भाषा नहीं है, उस तरह आर्यों की कथ्य भाषाएँ भारत के आदिम-निवासी अनार्य लोगों की भिन्न-भिन्न भाषाओं के प्रभाव से जिन रूपान्तरों को प्राप्त हुई थीं वे ही भिन्न-भिन्न अपभ्रंश भाषाएँ हैं और ये महाराष्ट्री की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं। डॉ. हॉर्नलि के इस मत का सर ग्रियर्सन-प्रभृति आधुनिक भाषातत्त्वज्ञ स्वीकार नहीं करते हैं। सर ग्रियर्सन के मत में भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाएँ साहित्य और व्याकरण में नियन्त्रित होकर जन-साधारण में अप्रचलित होने के कारण जिन नूतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी वे ही अपभ्रंश हैं। ये अपभ्रंश-भाषाएँ ख्रिस्तीय पञ्चम शताब्दी के बहुत काल पूर्व से ही कथ्य भाषाओं के रूप में व्यवहृत होती थीं, क्योंकि चण्ड के प्राकृत-व्याकरण में और कालिदास की विक्रमोर्वशी में इसके निदर्शन पाये जाने के कारण यह निश्चित है कि ख्रिस्तीय पञ्चम शताब्दी के पहले से ही ये साहित्य में स्थान पाने लगी थीं। ये अपभ्रंश भाषाएँ प्रायः दशम शताब्दी पर्यन्त साहित्य की भाषाएँ थीं। इसके बाद फिर जन-साधारण में अप्रचलित होने से जिन नूतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई वे ही हिन्दी, बंगला, गुजराती वगैरह आधुनिक

१ "खीरीणियाओ गावीओ", "गोण वियाल" ( आचा २, ४, ५ )।

"गणरगावीओ" (विपा १, २ पत्र २६)।

"गोणीणं सगेल" (व्यवहारसूत्र, उ० ४)।

२ "गोवावी" (प्राकृतलक्षण २, १६)। ३. "गोणादय" (हे० प्रा० २, १७४)।

४. "आभीरादिगिर काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृता ।

शास्त्रे तु संस्कृतादन्यदात्र शतयोदितम्" (१, ३६)।

आर्य कथ्य भाषाएँ हैं। इनका उत्पत्ति-समय ख्रिस्त की नववीं या दसवीं शताब्दी है। सुतरां, अपभ्रंश-भाषाएँ ख्रिस्त की पञ्चम शताब्दी के पूर्व से लेकर नववीं या दशवीं शताब्दी पर्यन्त साहित्य की भाषाओं के रूप में प्रचलित थीं। इन अपभ्रंश भाषाओं की प्रकृति वे विभिन्न प्राकृत-भाषाएँ हैं, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में उन अपभ्रंशों की उत्पत्ति के पूर्वकाल में प्रचलित थीं।

भेद

अपभ्रंश के बहुत भेद हैं, प्राकृतचन्द्रिका में इसके ये सत्ताईस भेद बताये गए हैं।

“ब्राह्मणे लाटवैदर्भावुपनागरनागरी । वावंरावन्त्यराञ्चालटाक्षमालवकैक्या ॥

गौडोद्द्वैवपाथात्यपाएख्यकौन्तलसैहला । कार्तिकथप्राच्यकाण्टिकाण्यद्राविटगौर्जरा ॥

शाम्भोरो मव्यदेशीय सूक्ष्मभेदव्यत्यिता । सप्तविंशचयत्र श वैतालादिप्रभेदत १ ॥

मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व में प्राकृतचन्द्रिका से सत्ताईस अपभ्रंशों के जो लक्षण और उदाहरण उद्धृत किए हैं<sup>१</sup>। वे इतने अपर्याप्त और अस्पष्ट हैं कि खुद मार्कण्डेय ने भी इनको सूक्ष्म कह कर नगण्य बताये हैं और इनका पृथग्-पृथग् लक्षण-निर्देशन न कर उक्त समस्त अपभ्रंशों का नागर, ब्राह्मण और उपनागर इन तीन प्रधान भेदों में ही अन्तर्भाव माना है। परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जब यह निश्चय है कि जिन भाषाओं का उत्पत्ति स्थान भिन्न-भिन्न प्रदेश है और जिनकी प्रकृति भी भिन्न-भिन्न प्रदेश की भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाएँ हैं तब वे अपभ्रंश भाषाएँ भी भिन्न-भिन्न ही हो सकती हैं और उन सब का समावेश एक दूसरे में नहीं किया जा सकता। वास्तव में बात यह है कि वे सभी अपभ्रंश भिन्न भिन्न होने पर भी साहित्य में निवृद्ध न होने के कारण उन सब के निदर्शन ही उपलब्ध नहीं हो सकते थे। इसीसे प्राकृतचन्द्रिकाकार न उनके स्पष्ट लक्षण ही कर पाये हैं और न तो उदाहरण ही अधिक दे सके हैं। यही कारण है कि मार्कण्डेय ने भी इन भेदों को सूक्ष्म कहकर टाल दिये हैं। जिन अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य-निवृद्ध होने से निदर्शन पाये जाते हैं उनके लक्षण और उदाहरण आचार्य हेमचन्द्र ने केवल अपभ्रंश के सामान्य नाम से और मार्कण्डेय ने अपभ्रंश के तीन विशेष नामों से दिये हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने ‘अपभ्रंश’ इस सामान्य नाम से और मार्कण्डेय ने ‘नागरापभ्रंश’ इस विशेष नाम से जो लक्षण और उदाहरण दिये हैं वे राजस्थान-अपभ्रंश या राजपूताना तथा गुजरात प्रदेश के अपभ्रंश से ही संबन्ध रखते हैं। ब्राह्मण-अपभ्रंश के नाम से सिन्धुप्रदेश के अपभ्रंश के लक्षण और उदाहरण मार्कण्डेय ने अपने व्याकरण में दिये हैं, और उपनागर-अपभ्रंश का कोई लक्षण न देकर केवल नागर और ब्राह्मण के मिश्रण को ‘उपनागर-अपभ्रंश’ कहा है। इसके सिवा सौरसेनी-अपभ्रंश के निदर्शन मध्यदेश के अपभ्रंश में पाये जाते हैं। अन्य अन्य प्रदेशों के अथवा महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी और पैशाची भाषाओं के जो अपभ्रंश थे उनका कोई साहित्य उपलब्ध न होने से कोई निदर्शन भी नहीं पाये जाते हैं।

भिन्न-भिन्न अपभ्रंश भाषा का उत्पत्ति-स्थान भी भारतवर्ष का भिन्न भिन्न प्रदेश है। रूद्रट ने और वाग्भट ने उत्पत्ति-स्थान अपने अपने अलङ्कार-ग्रन्थ में यह बात सन्नेप में अथच स्पष्ट रूप में इस तरह कही है—

“पठोऽत्र भूरिभेदो देशविशेषादपभ्रंशः” (काव्यालङ्कार २, १२)।

“अपभ्रंशस्तु यच्छुद्धं तत्तद्देशेषु भाषितम्” (वाग्भटालङ्कार २, ३)।

ख्रिस्त की पञ्चम शताब्दी के पूर्व से लेकर दशम शताब्दी पर्यन्त भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेश में कथ्य भाषाओं के प्राकृतिक प्रायः कथ्य रूप में प्रचलित जिस जिस अपभ्रंश भाषा से भिन्न-भिन्न प्रदेश की जो जो आधुनिक आर्य कथ्य भाषाओं की प्रकृति भाषा (Modern Vernacular) उत्पन्न हुई है उसका विवरण यों है :—

१. बंगीयसाहित्यपरिपत्-परिचय, १३१७।

२. “टाक्कं टक्कभाषानागरोपनागरादिभ्योऽञ्चवारण्यीयम् । तुवहुला मालवी । वाडोवहुला पाञ्चाली । उज्जयिनी वैदर्भी । संबोवनाख्या लाटी । ईजारेनारवहुला श्रौट्टी । सवीण्डा वैक्यी । नमासाख्या गौडो । डकारवहुला कौन्तली । एकारिणी च पाएख्या । युक्ताख्या सैहनी । हिजुका कार्तिकी । प्राच्या तद्देशीयनापाख्या । ज(म)ड्रादिवहुलाऽऽनीरी वणंविपर्ययात् काण्टि । मव्यदेशीया तद्देशीयाख्या । संस्कृताख्या च गौर्जरी । चकारात् पूर्वोत्तङ्कभाषाग्रहणम् । रत(ल)हमा व्यत्ययेन पाथात्या । रेफ व्यत्येन द्राविडी । डकारवहुला वैतालिकी । एग्रोवहुला काञ्ची । शेपा देशभाषाविभेदान् ।”

३. “नागरो ब्राह्मणोपनागरश्चेति ते त्रयः । अपभ्रंशः, परे सूक्ष्मभेदन्तान् पृथङ् मता” (प्रा० स० पृष्ठ ३) । “अन्येषामपभ्रंश-नामेष्वन्तर्भावः” (प्रा० स० पृष्ठ १२२) ।

- महाराष्ट्री-अपभ्रंश से मराठी और कोंकणी भाषा ।  
 मागधी-अपभ्रंश की पूर्व शाखा से वगला, उड़िया और आसामी भाषा ।  
 मागधी अपभ्रंश की विहारी शाखा से मैथिली, मगही और भोजपुरिया ।  
 अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वीय हिन्दी भाषाएँ अर्थात् अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ।  
 सौरसेनी-अपभ्रंश से बुन्देली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बोंगरू, हिन्दी या उर्दू के पाश्चात्य हिन्दी भाषा ।  
 नागर-अपभ्रंश से राजस्थानी मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी तथा गुजराती भाषा ।  
 पालि से सिन्धली और मालदीवन ।  
 टाक्की अथवा टाक्की से लहण्डी या पञ्चमीय पञ्जाबी ।  
 टाक्की-अपभ्रंश (सौरसेनी के प्रभाव-युक्त) से पूर्वीय पञ्जाबी ।  
 ब्राचड-अपभ्रंश से सिन्धी भाषा ।  
 पैशाची-अपभ्रंश से काश्मीरी भाषा ।

लक्षण नागर-अपभ्रंश के प्रधान लक्षण ये हैं —

#### वर्ण-परिवर्तन

- भिन्न-भिन्न स्वरों के स्थान में भिन्न-भिन्न स्वर होते हैं, यथा—कृत्स्न = कच, काच, वचन = वेण, वीण, वाहु = वाह, वाहा, वाहु, षड = पट्ठि, पिट्ठि, पुट्ठि, तृण = तण, तिण, तृण, मुञ्जत = मुक्किद, मुक्कद, लेखा = लिह, लीह, लेह ।
- स्वरों के मध्यवर्ती असयुक्त क, ख, त, थ, प और फ के स्थान में प्रायः क्रमशः ग, घ, द, ध, व और भ होता है, यथा—विच्छेदकर = विच्छोहरण, सुत्त = मुध, कथित = कधिद, शय्य = शवध, सफल = समल ।
- अनादि और असयुक्त म के स्थान में वैकल्पिक सानुनासिक व होता है, यथा—कमल = कवैल, कमल, भ्रमर = भवैर, भमर ।
- संयोग में परवर्ती र का विकल्प से लोप होता है; यथा—प्रिय = पिय, प्रिय, चन्द्र = चन्द, चन्द्र ।
- कहीं-कहीं संयोग के परवर्ती य का विकल्प से र होता है, जैसे—व्यास = वास, वास, व्याकरण = वागरण, वागरण ।
- महाराष्ट्री में जहाँ न्ह होता है वहाँ अपभ्रंश में म्भ और म्ह दोनों होते हैं, यथा—ग्रीष्म = गिष्म, गिष्म; श्लेष्म = सिष्म, सिष्म ।

#### नाम-विभक्ति

- विभक्ति के प्रसंग में ह्रस्व स्वर का दीर्घ और वीर्घ का ह्रस्व प्रायः होना है, यथा—श्यामल = सामल, खड्गा = खग, दृष्टि = दिष्टि; पुत्री = पुत्ति ।
- साधारणतः सातों विभक्ति के जो प्रत्यय हैं वे नाचे दिये जाते हैं । लिंग-भेद में और शब्द-भेद में अनेक विशेष प्रत्यय भी हैं, जो विस्तार-भय से यहाँ नहीं दिये गए हैं ।

	एकवचन	बहुवचन
प्रथमा	उ, हो	०
द्वितीया	”	०
तृतीया	ए	हि
चतुर्थी	सु, हो, सु	हं, ०
पञ्चमी	है, हू	हूँ
षष्ठी	सु, हो, सु	हं, ०
सप्तमी	ह, हि	हि

#### आख्यात विभक्ति

	एकवचन	बहुवचन
१.	१ पु०	उं
	२ पु०	हि
	३ पु०	ह, ए

२. मध्यम पुरुष के एकवचन में आज्ञार्थ में इ, उ और ए होते हैं, यथा—कुरु = करि, कर, करे ।  
 ३. भविष्यत्काल में प्रत्यय के पूर्व में उ आगम होता है, यथा—भविष्यति = होसइ ।

कृदन्त

१. तव्य-प्रत्यय के स्थान में इएवञ्च, एवञ्च और एवा होता है; यथा—कर्णव्य = करिएवञ्चं, करेवञ्च, करेवा ।  
 २. त्वा के स्थान में इ, इच, इवि, अवि, एपि, एप्पिणु, एवि, एविण, होते हैं, यथा—कृत्वा = करि, करिउ, करिवि, करवि, करेपि, करेपिणु, करेवि, करेविणु ।  
 ३. तुम्-प्रत्यय की जगह एव, अण, अणहं, अणहि एपि, एप्पिणु, एवि, एविणु होते हैं, यथा—कतुम् = करेव, करण, करणहं कर-णहि, करेपि, करेपिणु, करेवि, करेविणु ।  
 ४. शीलाद्यर्थक तु-प्रत्यय के स्थान में अणप्र होता है, जैसे—कतुम् = करणप्र, मारयितु = मारणप्र ।

तद्धित

१. त्व और ता के स्थान में षण होता है, यथा—देवत् = देवष्ण, महत्त्व = वहुष्ण ।

हम पहले यह कह आये हैं कि वैदिक और लौकिक संस्कृत के शब्दों के साथ तुलना करने पर जिस प्राकृत भाषा में वर्ण लोप-प्रभृति परिवर्तन जितना अधिक प्रतीत हो, वह उतनी ही परवर्ती काल में उत्पन्न मानी जानी चाहिए। इस नियम के अनुसार, हम देखते हैं कि महाराष्ट्री प्राकृत में व्यञ्जनो का लोप सर्वापेक्षा अधिक है, इससे वह अन्यान्य प्राकृत-भाषाओं के पीछे उत्पन्न हुई है, ऐसा अनुमान किया जाता है। परन्तु अपभ्रंश में उक्त नियम का व्यत्यय देखने में आता है, क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रदेशों की अपभ्रंश भाषाएँ यद्यपि महाराष्ट्रीके बाद ही उत्पन्न हुई हैं तथापि महाराष्ट्री में जो व्यञ्जन-वर्ण-लोप देखा जाता है, अपभ्रंश में उसकी अपेक्षा अधिक नहीं, बल्कि कम ही वर्ण-लोप पाया जाता है और ऋ त्वर तथा सयुक्त रकार भी विद्यमान है। इस पर से यह अनुमान करना असंगत नहीं है कि वर्ण-लोप की गति ने महाराष्ट्री प्राकृत में अपनी चरम सीमा को पहुँच कर उसको (महाराष्ट्री को) अस्थिहीन-माँस पिण्ड की तरह स्वर-बहुल आकार में परिणत कर दिया। अपभ्रंश में उसीकी प्रतिक्रिया शुरु हुई, और प्राचीन स्वर एव व्यञ्जनों को फिर स्थान देकर भाषा को भिन्न आदर्श में गठित करने की चेष्टा हुई। उस चेष्टा का ही यह फल है कि पिछले समय में संस्कृत-भाषा का प्रभाव फिर प्रतिष्ठित होकर आधुनिक आर्य कथ्य भाषाएँ उत्पन्न हुई हैं।

### प्राकृत पर संस्कृत का प्रभाव

जैन और बौद्धों ने संस्कृत भाषा का परित्याग कर उस समय की कथ्य भाषा में धर्मोपदेश को लिपिवद्ध करने की प्रथा प्रचलित की थी। इससे जो दो नया साहित्य-भाषाओं का जन्म हुआ था, वे जैन सूत्रों की अर्धमागधी और बौद्ध-धर्म-ग्रन्थ की पालि भाषा है। परन्तु ये दो साहित्य-भाषाएँ और अन्यान्य समस्त प्राकृत-भाषाएँ संस्कृत के प्रभाव को उल्लंघन नहीं कर सकी हैं। इस बात का एक प्रमाण तो यह है कि इन समस्त प्राकृत-भाषाओं में संस्कृत-भाषा के अनेक शब्द अविकल रूप में गृहीत हुए हैं। ये शब्द तत्सम कहे जाते हैं। यद्यपि इन तत्सम शब्दों ने प्रथम स्तर की प्राकृत-भाषाओं से ही संस्कृत में स्थान और रक्षण पाया था, तो भी यह स्वीकार करना ही होगा कि ये सब शब्द परवर्ती काल की प्राकृत-भाषाओं में जो अपरिवर्तित रूप में व्यवहृत होते थे वह संस्कृत-साहित्य का ही प्रभाव था।

इसके अतिरिक्त, संस्कृत के ही प्रभाव से बौद्धों में एक मिश्र-भाषा उत्पन्न हुई थी। महायान-बौद्धों के महावैपुल्य-सूत्र नामक कतिपय सूत्र ग्रन्थ हैं। ललितविस्तर, सद्धर्म-पुण्डरीक, चन्द्रप्रदीपसूत्र प्रभृति इसके अन्तर्गत हैं। इन ग्रन्थों की भाषा में अधिकांश शब्द तो संस्कृत के हैं ही, अनेक प्राकृत शब्दों के आगे भी संस्कृत की विभक्ति लगाकर उनको भी संस्कृत के अनुरूप किये गए हैं। पार्श्वत्य विद्वानों ने इस भाषा को 'गाथा' नाम दिया है। परन्तु यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि इसका यह 'गाथा' नाम असंगत है, क्योंकि यह संस्कृत-मिश्रित-प्राकृत का प्रयोग उक्त ग्रन्थों के केवल पद्यांशों में ही नहीं, बल्कि गद्यांश में भी देखा जाता है। इससे इन ग्रन्थों की भाषा को 'गाथा' न कहकर 'प्राकृत-मिश्र-संस्कृत' या 'संस्कृत-मिश्र-प्राकृत' अथवा मत्सेप में मिश्र-भाषा ही कहना उचित है।

डॉ. वनेफ और डॉ. राजेन्द्र लाल मित्र का मत है कि, 'संस्कृत भाषा, क्रमशः परिवर्तित होती हुई प्रथम गाथा भाषा के रूप में और बाद के पालि भाषा के आकार में परिणत हुई है। इस तरह गाथा भाषा संस्कृत और पालि की मध्यवर्ती

होने के कारण इन दोनों के ( संस्कृत और पालि के ) लक्षणों से आभ्रान्त है ।' यह सिद्धान्त सर्वथा भ्रान्त है, क्योंकि हम यह पहले ही अच्छी तरह स्मरणित कर चुके हैं कि संस्कृत भाषा क्रमशः परिवर्तित होकर पालि भाषा में परिणत नहीं हुई है किन्तु पालि-भाषा वैदिक-युग की एक प्रादेशिक भाषा से ही उत्पन्न हुई है । और, गाथा-भाषा पालि-भाषा के पहले प्रचलित न थी, क्योंकि गाथा भाषा के समस्त ग्रन्थों का रचना-काल ख्रिस्त-पूर्व दो सौ वर्षों से लेकर ख्रिस्त की तृतीय शताब्दी पर्यन्त का है, इससे गाथा-भाषा बहुत तो पालि भाषा की समकालीन हो सकती है, न कि पालि भाषा की पूर्ववस्था । यह भाषा संस्कृत के प्रभाव को कायम रखकर विभिन्न प्राकृत-भाषाओं के मिश्रण से बनी है, इसमें सन्देह नहीं है । यही कारण है कि इसके शब्दों को प्रस्तुत कोष में स्थान नहीं दिया गया है ।

गाथा-भाषा का जोड़ा नमूना ललितविस्तर से यहाँ उद्धृत किया जाता है —

“अब्रुव त्रिभुव शरदन्ननिभ, नटरङ्गसमा जगि जन्मि च्युति ।

गिरिनद्यसम लघुशीघ्रजव, ब्रजतायु जगे यय विद्यु नमे ॥ १ ॥”

“उदकचन्द्रसमा ह्मि कामगुणा , प्रतिविम्ब इवा गिरिघोष यया ।

प्रतिभाससमा नटरङ्गसमास्तथ स्वप्नसमा विदितार्यजनै. ॥ १ ॥” ( पृष्ठ २०४, २०६ ) ।

बुद्धदेव और उसके सारथी की आपस में बातचीत —

“एषो हि देव पुण्यो जरयाभिभूत , क्षीणेन्द्रिय सुदु खितो बलवीर्यहीन ।

बन्धुजनेन परिभूत अनाथभूत , कार्यासमर्थं प्रपविद्ध वनेव दाव ॥

कुलधर्मं एष अयमस्य हि त्वं भणाहि, अयवापि सर्वजगतोऽप्य इयं क्षवस्या ।

शीघ्रं भणाहि वचन ययभूतमेतत्, श्रुत्वा तयार्थमिह योनि संचिन्तयिष्ये ॥

नैतन्य देव कुलधर्मं न राण्डधर्मं , सर्वे जगम्य जर यौवन धर्पयाति ।

तुम्यपि मातृपितृव्रान्धवज्ञातिसधो, जरया अमुक्त नहि अन्यगतिर्जनस्य ॥

धिक् सारथे श्रुधवालयजनस्य बुद्धिर्यद् यौवनेन मदमत्त जरा न परये ।

भावतंयम्विह रथ पुनरह प्रवेक्ष्ये, कि महि क्षीरतिभिर्जरया श्रितस्य ॥”

### संस्कृत पर प्राकृत का प्रभाव

पहले जो यह कहा जा चुका है कि वैदिक काल के मध्यदेश-प्रचलित प्राकृत से ही वैदिक संस्कृत उत्पन्न हुआ है और वह साहित्य और व्याकरण के द्वारा क्रमशः साजित और नियन्त्रित होकर अन्त में लौकिक संस्कृत में परिणत हुआ है; एव प्राकृत के अन्तर्गत समस्त तत्सम शब्द संस्कृत से नहीं, परन्तु प्रथम स्तर के प्राकृत से ही संस्कृत में और द्वितीय स्तर के प्राकृत में आये हैं, प्राकृत के अन्तर्गत तद्भव शब्द भी संस्कृत से प्राकृत में गृहीत न होकर प्रथम स्तर के प्राकृत से ही क्रमशः परिवर्तित होकर परवर्ती काल के प्राकृत में स्थान पाये हैं और संस्कृत व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होने से वे शब्द संस्कृत में अपरिवर्तित रूप में ही रह गये हैं, इसी तरह प्राकृत के अधिकांश देशी-शब्द भी वैदिक काल के मध्यदेश-भिन्न अन्यान्य प्रदेशों के आर्य-उपनिवेशों की प्राकृत-भाषाओं से ही वाद की प्राकृत-भाषाओं में आये हैं, इससे उन्होंने ( देशी शब्दों ने ) मध्यदेश के प्राकृत से उत्पन्न वैदिक और लौकिक संस्कृत में कोई स्थान नहीं पाया है । इस पर से यह सहज ही समझा जा सकता है कि प्राकृत ही संस्कृत भाषा का मूल है ।

अब इस जगह हम यह बताना चाहते हैं कि प्राकृत से न केवल वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषाएँ उत्पन्न ही हुई हैं, बल्कि संस्कृत ने मृत होकर साहित्य-भाषा में परिणत होने पर भी अपनी अग-पुष्टि के लिए प्राकृत से ही अनेक शब्दों का समग्र किया है । ऋग्वेद आदि में प्रयुक्त वक्र ( वक्र ), वहू ( वधू ), मेह ( मेघ ), पुराण ( पुरातन ), तितउ ( चालनी ), उच्छ्रेक ( उल्लेक ), प्रभृति शब्द और लौकिक संस्कृत में प्रचलित तितउ ( चालनी ), आवुत्त ( भगिनीपति ), खुर ( क्षुर ), गोखुर ( गोक्षुर ), गुग्गुलु ( गुल्लुलु ), छुरिका ( क्षुरिका ), अच्छ ( ऋष ), कच्छ ( कक्ष ), पियाल ( प्रियाल ), गह ( गण्ड ), चन्द्र ( चन्द्र ), इन्द्र ( इन्द्र ), शिथिल ( श्य ), मरन्द ( मकरन्द ), किसल ( किसलय ), हाला ( सुराविशेष ), हेवाक ( व्यसन ), दाढा ( दंष्ट्रा ), खिडकिक्का ( लघुद्वार, भाषा में खिडकी ), जारुज ( जरायुज ), पुराण ( पुरातन ) वगैरह शब्द प्राकृत

से ही अधिकल रूप में गृहीत हुए हैं और मारिप ( माप ), जहिष्यसि ( हास्यसि ), वृमि ( व्रमि ), निरुन्तन ( निकरन ), लुभ ( लुभर ), प्रभृति प्राकृत के ही मूल शब्द माजित कर संस्कृत में लिए गए हैं ।

### प्राकृत-भाषाओं का उत्कर्ष

कोई भी कथ्य भाषा क्यों न हो, वह सर्वदा ही परिवर्तन-शील हाती है । साहित्य और व्याकरण उभरके नियम के बन्धन में जकड़कर गति-हीन और अपरिवर्तनीय करते हैं । उसका फल यह होता है कि साहित्य की भाषा क्रमशः कथ्य भाषा से भिन्न हो जाती है और जन-साधारण में अप्रचलित मृत-भाषा में परिणत होती है । साहित्य की हरकोई भाषा एक समय की कथ्य भाषा से ही उत्पन्न होती है और वह जब मृत-भाषा में परिणत होती है तब कथ्य भाषा से फिर एक नयी साहित्य की भाषा की सृष्टि होती है । इस तरह एक समय की कथ्य भाषा से ही वैदिक और लौकिक संस्कृत उत्पन्न हुई थी और वह साधारण के पक्ष में दुर्बोध होने पर अर्धमागधी, पालि आदि प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में स्थान पाया था । ये सब प्राकृत-भाषाएँ भी समय पाकर जन-साधारण में दुर्बोध हो जाने पर संस्कृत की तरह मृत-भाषा में परिणत हो गईं और भिन्न-भिन्न प्रदेश की अपभ्रंश-भाषाएँ साहित्य-भाषाओं के रूप में व्यवहृत होने लगीं । अपभ्रंश-भाषाएँ भी जब दुर्बोध होकर मृत-भाषाओं में परिणत हो चलीं तब हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी प्रभृति आधुनिक अर्थ कथ्य भाषाएँ साहित्य की भाषाओं के रूप में गृहीत हुई हैं । उक्त समस्त कथ्य भाषाएँ उस-उस युग की साहित्य की मृत-भाषाओं की तुलना में अवश्य ऐसे कतिपय उत्कर्षों से विशिष्ट होनी चाहिए जिनकी वदौलत ही ये उस-उस समय की मृत-भाषाओं को साहित्य के सिंहासन से च्युत कर उस सिंहासन को अपने अधिकार में कर पायी थीं । अब यहाँ हमें यह जानना जरूरी है कि ये उत्कर्ष कौन थे ?

हरकोई भाषा का सर्व-प्रथम उद्देश्य होता है अर्थ-प्रकाश । इसलिए जिस भाषा के द्वारा जितने स्पष्ट रूप से और जितने अल्प प्रयास से अर्थ-प्रकाश किया जाय वह उतनी ही उत्कृष्ट भाषा मानी जाती है । इन दो कारणों के वश होकर ही भाषा का निरन्तर परिवर्तन साधित होता है और भिन्न-भिन्न जाल में भिन्न-भिन्न कथ्य-भाषाओं से नयी-नयी साहित्य भाषाओं की उत्पत्ति होती है । वैदिक संस्कृत क्रमशः लुप्त होकर लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति उक्त दो कारणों से ही हुई थी । वैदिक शब्द-समूह अप्रचलित होने पर उनके अनावश्यक प्रकृति और प्रत्ययों को वाद देकर जो सहज ही समझ में आ सकें वैसे प्रकृति और प्रत्ययों का संग्रह कर वैदिक भाषा से लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई थी । संस्कृत-भाषा के प्रकृति-प्रत्यय काल-क्रम से अप्रचलित होकर जब दुःख-बोध हो उठे तब उस समय की कथ्य भाषाओं से ही स्पष्टार्थक, सुखोच्चारण-योग्य, मधुर और कोमल प्रकृति-प्रत्ययों का संग्रह कर संस्कृत के अनावश्यक, दुर्बोध, कष्टोच्चारणीय, कठोर और कर्कश प्रकृति-प्रत्यय-सन्धि-समासों का वर्जन कर अर्धमागधी, पालि और अन्यान्य प्राकृत-भाषाएँ साहित्य-भाषाओं के रूप में व्यवहृत होने लगीं । यदि इन सब नूतन साहित्य-भाषाओं में संस्कृत की अपेक्षा अर्थ-प्रकाश की अधिक शक्ति, अल्प आयाम से और सुय से उच्चारण-योग्यता प्रभृति गुण न होते तो वे कर्म भी संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा में साहित्य के सिंहासन में च्युत् करने में समर्थ न होतीं । काल-क्रम से ये सब प्राकृत-साहित्य-भाषाएँ भी जब व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होकर अप्रचलित और जन-साधारण में दुर्बोध हो चलीं तब उस समय प्रचलित प्रादेशिक अपभ्रंश भाषाओं ने इनको टटारकर साहित्य-भाषाओं का स्थान अपने अधिकार में किया । यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि साहित्य की प्राकृत-भाषाओं की अपेक्षा इन अपभ्रंश-भाषाओं में वह कौन-सा गुण था जिससे ये अपने पहले की प्राकृत-साहित्य-भाषाओं से परास्त कर उनके स्थान को अपने अधिकार में कर सहीं ? इसका उत्तर यह है कि कोई भी गुण चरम सीमा में पहुँच जाने पर फिर वह गुण ही नहीं रहने पाता, वह दोष में परिणत हो जाता है । संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत-भाषाओं में यह उत्कर्ष था कि इनमें संस्कृत के कर्कश और कष्टोच्चारणीय अमयुक्त और संबुक्त व्यञ्जन वर्णों के स्थान में सब कोमल और सुखोच्चारणीय वर्ण व्यवहृत होते थे । किन्तु इस गुण की भी सीमा है, महाराष्ट्री प्राकृत में यह गुण सीमा का अतिक्रम कर गया, यहाँ तक कि संस्कृत के अनेक व्यञ्जनों का एकरूप ही लोप कर उनके स्थान में स्वर-वर्णों की परम्परा-द्वारा समस्त शब्द गठित होने लगे । इससे इन शब्दों के उच्चारण सुख-साध्य होने के बदले अधिकतर कष्टसाध्य हुए, क्योंकि बीच-बीच में व्यञ्जन-वर्णों से व्यवहृत न होकर केवल स्वर परम्परा का उच्चारण करना कष्टकर होता है । इस तरह प्राकृत-भाषा महाराष्ट्री-प्राकृत में आकर जब इस चरम अवस्था में उपनीत हुई तबसे ही इसका पतन अनिवार्य हो उठा । इसकी प्रतिक्रिया-

स्वरूप अपभ्रंश भाषाओं में नूतन व्यञ्जन वर्ण बैठे कर सुसोच्चारण-योग्यता करने की चेष्टा हुई। इसका फल यह हुआ कि प्रादेशिक अपभ्रंश-भाषाएँ साहित्य की भाषाओं के रूप में उन्नत हुई। आधुनिक प्रादेशिक आर्य-भाषाएँ भी प्राकृत भाषाओं के उस दोष का पूर्ण संशोधन करने के लिए नूतन संस्कृत शब्दों को ग्रहण कर अपभ्रंशों के स्थान को अपने अधिकार में करके नवीन साहित्य-भाषाओं के रूप में परिणत हुई। आधुनिक आर्य-भाषाओं में पूर्व वर्ती प्राकृतों और अपभ्रंशों की अपेक्षा उत्कर्ष यह है कि इन्होंने शब्दों के सम्बन्ध में प्राकृत और संस्कृत को मिश्रित कर उभय के गुणों का एक सुन्दर सामञ्जस्य किया है। इनके तद्भव और देश्य शब्दों में प्राकृत की कोमलता और मधुरता है और तत्सम शब्दों में संस्कृत की ओजस्विता। आधुनिक आर्य-भाषाओं में संस्कृत और प्राकृत दोनों की अपेक्षा उत्कर्ष यह है कि ये संस्कृत और प्राकृतों के अनावश्यक लिंग, वचन और विभक्तियों के भेदों का वर्जन कर, उनके बदले भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र शब्दों के द्वारा लिंग, वचन और विभक्तियों के भेदों को प्रकाशित कर और संस्कृत तथा प्राकृतों के विभक्ति-बहुल स्वभाव का परित्याग कर विश्लेषण-शील-भाषा में परिणत हुई हैं। इस तरह इन भाषाओं ने अल्प आयास से वक्ता के अर्थ को अधिकतर स्पष्ट रूप में प्रकाशित करने का मार्ग-प्रदर्शन किया है। उक्त गुणों के कारण ही आधुनिक आर्य-भाषाओं ने वैदिक, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश इन सब साहित्य-भाषाओं के स्थान पर अपना अधिकार जमाया है।

संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत-भाषाओं में जो उत्कर्ष—गुण ऊपर बताये हैं वे अनेक प्राचीन ग्रन्थकारों ने पहले ही प्रदर्शित किये हैं। उनके ग्रन्थों से, प्राकृत के उत्कर्ष के सम्बन्ध में, कुछ वचन यहाँ पर उद्धृत किए जाते हैं —

<sup>१</sup> 'अभिन्नं पाठम-कव्वं पठिं सोळं च जे ए प्राणंति ।

कामस्स तत्त-तत्ति कुणंति, ते कह ए लज्जति ? ॥ (हाल की गाथासप्तशती १, २) ।

अर्थात् जो लोग अमृतोपम प्राकृत-काव्य को न तो पढ़ना जानते हैं और न सुनना जानते हैं अथवा काम-तत्त्व की आलोचना करने हैं उनको शरम क्यों नहीं आती ?

<sup>२</sup> 'उम्मिल्लइ लायएणं पयय-च्छायाए सक्कय-वयाए ।

सक्कय-सक्काक्ककरिसणेण पययन्सवि पहावो ॥' (वाक्पतिराज का गण्डवहो ६५) ।

संस्कृत शब्दों का लावण्य प्राकृत की छाया से ही व्यक्त होता है, संस्कृत-भाषा के उत्कृष्ट संस्कार में भी प्राकृत का प्रभाव व्यक्त होता है।

<sup>३</sup> 'एवमत्य-दसणं संनिवेश-सिसिराओ वध-रिद्धीओ ।

अविरलमिणमो आभुवण वधमिह एवर पययम्मि ॥' (गण्डवहो ७२) ।

सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक प्रचुर परिमाण में नूतन नूतन अर्थों का दर्शन और सुन्दर रचनावाली प्रवन्ध-संपत्ति कहीं भी है तो वह केवल प्राकृत में ही।

<sup>४</sup> 'हरिस-विशेषो वियसावओ य मत्तावओ य अच्छीए ।

इह वहि-दुत्तो भंतो मुहो य हिययस्स विप्फुरइ ॥' (गण्डवहो ७४) ।

प्राकृत-काव्य पढ़ने के समय हृदय के भीतर और बाहर एक ऐसा अभूत-पूर्व हर्ष होता है कि जिससे दोनों आँखें एक ही साथ विकसित और मुद्रित होती हैं।

<sup>५</sup> 'पस्सो सक्कय-वधो पाठअ वंधोवि होइ सुजमारो ।

पुरिस-महिलाणं जैत्तममिहतर तेत्तममिमाण ॥' (राजशेखर की कपूरकञ्जरी, अङ्क १) ।

संस्कृत-भाषा कर्कश और प्राकृत भाषा सुकुमार है। पुरुष और महिला में जिनना अन्तर है, इन दो भाषाओं में भी उतना ही प्रभेद है।

१. प्रभूत प्राकृतं काव्यं पठितुं श्रोतुं च ये न जानन्ति । कामस्यतत्त्वचिन्ता कुर्वन्ति, ते कथं न लज्जन्ते ? ॥

२. उन्मीलति लावण्यं प्राकृतच्छायाया संस्कृतपदानाम् । संस्कृतसंस्कारोत्कर्षणेन प्राकृतस्यापि प्रभावः ॥

३. नवामार्थदर्शनं संनिवेशशिशिरा वन्धद्वयं । अविरलमिदमाभुवनवन्धमिह केवलं प्राकृते ॥

४. हर्षविशेषो विकासको मुक्तनीकारकश्चाक्षणो । इह वहिर्मुखोऽन्तर्मुखश्च हृदयस्य विस्फुरति ॥

५. पदप संस्कृतवन्धं प्राकृतवन्धं भवति सुकुमारः । पुरुषमहिलयोर्वाविधान्तरं तावदनयो ॥



‘निर धव्या दिव्या प्रकृतिमधुरा प्राकृतगिरः ।

सुभव्योऽपत्र श सरतरचनं भूतवचनम् ।’ (राजशेखर का वानरामायण १, ११) ।

संस्कृत-भाषा सुनने योग्य है, प्राकृत भाषा स्तनाव-मधुर है, अपत्र श भाषा भव्य है और पैशाची-भाषा की रचना रस-पूर्ण है ।

‘सक्त्य-कव्वस्तत्य जेण न याणति मद-बुद्धीया ।

सव्वाणवि सुन्न-बोहं तेणेम पायय रइय ॥

उद्वन्ध-वेत्ति-रहिय मुल्लिय-वन्नेहि विरइयं रम्मं ।

पायय-कव्व लोए कत्स न हियय सुत्तावेइ ? ॥ (महेश्वरपूरि का पञ्चमीमाहात्म्य) ।

नामान्य मनुष्य संस्कृत-काव्य के अर्थ को समझ नहीं पाते हैं । इसलिए यह ग्रन्थ उम प्राकृत-भाषा में रचा जाता है जो सब लोगों को सुख-बोध है ।

गुढार्थक देशी-शब्दों में रहित और सुललित पदों में रचा हुआ सुन्दर प्राकृत-काव्य किसके हृदय को सुखी नहीं करता ?

‘उज्जकट सक्त्य-कव्व सक्त्य-कव्वं च निम्मिय जेण ।

वस-हरं व पलित्तं तट्टयइतट्टत्तणं कुणइ ॥’

(वज्जालग (?)) से अपभ्रंशकाव्यत्रयो को प्रस्ता०, पृष्ठ ७६ में उद्धृत) ।

संस्कृत-काव्य को छोड़ो और जिसमें संस्कृत काव्य की रचना की उसका भी नाम मत लो, क्योंकि वह (संस्कृत) जलने हुए बॉस के घर की तरह ‘तड़ तड़ तट्ट’ आवाज करता है—श्रुतिकटु लगता है ।

‘पाइम-कव्वम्मि रसो यो जायइ तह व छेय-भणिएहि ।

उययन्त य वासिय सीयलस्त तित्ति न वच्चामो ॥

ललिये महुरक्खरए पुवई-यण-वत्तहे स-सिगारे ।

सत्ते पाइय-कव्वे को सइइ सक्कयं पडिं ? ॥’ (जयवल्लभ का वज्जालग, पृष्ठ ६)

प्राकृत-भाषा की कविता में और विदग्ध के वचनों में जो रस आता है उससे, वासी और शीतल जल की तरह, वृत्ति नहीं होती है—मन रुभी ऊबता नहीं है—उत्कण्ठा निरन्तर बनी ही रहती है ।

जब सुन्दर, मधुर, शृङ्गार-रस-पूर्ण और युक्तियों को प्रिय ऐसा प्राकृत-काव्य मौजूद है तब संस्कृत पढ़ने को कौन जाता है ?

१. संस्कृतकाव्यस्यार्थं येन न जानन्ति मन्दबुद्धयः । सर्वेषामपि सुखबोधं तेनेदं प्राकृतं रचितम् ॥

गुढार्थदेशीरहितं सुललितवर्णविरचितं रम्यम् । प्राकृतकाव्यं लोके कस्य न हृदयं सुखयति ? ॥

२. उज्जयता संस्कृतकाव्यं संस्कृतकाव्यं च निर्मितं येन । वंशगृहमिव प्रदीप्तं तट्टयइतट्टत्वं करोति ॥

३. प्राकृतकाव्ये रसो यो जायते तथा वा छेयभणितैः । उदकस्य च वासितशीतलस्य वृत्तिं न व्रजामः ॥

सलित्ते मधुराञ्जरेण पुवत्तिजनवत्तमे सशृंगारे । सति प्राकृतकाव्ये का प्वक्कते संस्कृतं पठितुम् ? ॥

## इस कोष में स्वीकृत पद्धति

१. प्रथम काले टाइपो में क्रम से प्राकृत शब्द, उसके बाद सादे टाइपों में उस प्राकृत शब्द के लिङ्ग आदि का संक्षिप्त निर्देश, उसके पश्चात् काले कोष्ठ (ब्रैकेट) में काले टाइपों में प्राकृत शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द, उसके अनन्तर सादे टाइपों में हिन्दी भाषा में अर्थ और तदनन्तर सादे टाइपों में ब्रैकेट में प्रमाण (रेफरेंस) का उल्लेख किया गया है।
२. शब्दों का क्रम नागरी वर्ण-माला के अनुसार इस तरह रखा गया है — अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, क, ख, ग आदि। इस तरह अनुस्वार के स्थान की गणना संस्कृत-कोषों की तरह पर-सवरण अनुनासिक व्यञ्जन के स्थान में न कर अन्तिम स्वर के बाद और प्रथम व्यञ्जन के पूर्व में ही करने का कारण यह है कि संस्कृत की तरह प्राकृत में व्याकरण की दृष्टि से भी अनुस्वार के स्थान में अनुनासिक का होना कहां भी अनिवार्य नहीं है और प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों में प्रायः सर्वत्र अनुस्वार का ही प्रयोग पाया जाता है।
३. प्राकृत शब्द का प्रयोग त्रिरोप रूप से आप्रं (अर्धमागधी) और महाराष्ट्री भाषा के अर्थ में और सामान्य रूप से आप्रं से लेकर अपत्र श भाषा तक के अर्थ में किया जाता है। प्रस्तुत कोष के 'प्राकृत-शब्द-महाणव' नाम में प्राकृत-शब्द सामान्य अर्थ में ही गृहीत है। इससे यहाँ आप्रं, महाराष्ट्री, शौरसेनी, अशोक-शिलालिपि, देश्य, मागधी, पेशाची, चूलिकापेशाची तथा अनन्त्रंश भाषाओं के शब्दों का संग्रह किया गया है। परन्तु प्राचीनता और साहित्य की दृष्टि से इन सब भाषाओं में आप्रं और महाराष्ट्री का स्थान ऊँचा है। इससे इन दोनों के शब्द यहाँ पूर्ण रूप से लिए गये हैं और शौरसेनी आदि भाषाओं के प्रायः उन्हीं शब्दों को स्थान दिया गया है जो या तो प्राकृत (आप्रं और महाराष्ट्री) से विशेष भेद रखते हैं अथवा जिनका प्राकृत रूप नहीं पाया गया है, जैसे—'य्येव', 'विधुव', 'सपाद-इत्तम', 'संभावीयदि' वगैरह। इस भेद की पहिचान के लिए प्राकृत में इतर भाषा के शब्दों और आख्यात-कृतन्त के रूपों के आगे सादे टाइपों में कोष्ठ में उस उस भाषा का संक्षिप्त नाम-निर्देश कर दिया गया है, जैसे 'शौरि', '(मा)' इत्यादि। परन्तु शौरसेनी आदि में भी जो शब्द या रूप प्राकृत के ही समान हैं वहाँ ये भेद-दर्शक चिह्न नहीं दिए गए हैं।
  - (क) आप्रं और महाराष्ट्री से शौरसेनी आदि भाषाओं के जिन शब्दों में सामान्य (सर्व-शब्द-साधारण) भेद है उनको इस कोष में स्थान देकर पुनरावृत्ति-द्वारा ग्रन्थ के कलेवर को विशेष बढ़ाना इसलिए उचित नहीं समझा गया है कि वह सामान्य भेद प्राकृत-भाषाओं के साधारण अम्पासी से भी अज्ञात नहीं है और वह उपोद्घात में भी उस उस भाषा के लक्षण-प्रसङ्ग में दिखाना दिया गया है जिससे वह सहज ही ह्याल में आ सकता है।
  - (ख) आप्रं और महाराष्ट्री में भी परस्पर उन्नेखनीय भेद है। तिस पर भी यहाँ उनका भेद-निर्देश न करने का एक कारण तो यह है कि इन दोनों में इतर भाषाओं से अपेक्षा-कृत समानता अधिक है, दूसरा, प्रकृति की अपेक्षा प्रत्ययों में ही विशेष भेद है जो व्याकरण से सम्बन्ध रखता है, कोष से नहीं। तीसरा, जैन प्रयकारों ने महाराष्ट्री-ग्रंथों में भी आप्रं प्राकृत के शब्दों का अविकल रूप में अधिक व्यवहार कर उनको महाराष्ट्री का रूप दे दिया है।
४. प्राकृत में यश्रुतिवाला<sup>१</sup> नियम खूब ही अव्यवस्थित है। प्राकृत-प्रकाश, सेतुवन्ध, गाथासप्तशती और प्राकृतपिंगल आदि में इस नियम का एकदम अभाव है जबकि आप्रं, जैन महाराष्ट्री तथा गउडवहो-प्रभृति ग्रन्थों में इस नियम का हृद से ज्यादा आदर देखा जाता है, यहाँ तक कि एक ही शब्द में कहीं तो यश्रुति है और कहीं नहीं, जैसे 'पग्र' और 'पय', 'लोम' और 'लोय'। इस कोष में ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति न कर कोई भी (यश्रुतिवाले 'य', से रहित या सहित) एक ही शब्द लिया गया है। इससे क्रम तथा इतर समान शब्द की

१. देखो प्राकृतप्रकाश, सूत्र ४, १४, १७, हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण, सूत्र १, २५, और प्राकृतसर्वस्व, सूत्र, ४, २३ आदि।

२. प्राकृतसर्वस्व (पृष्ठ १-३) आदि में इनसे अतिरिक्त और भी प्राच्या, शाकारि आदि अनेक उपभेद बताए गए हैं, जिनका समावेश यहाँ शौरसेनी आदि इन्हीं मुख्य भेदों में यथास्थान किया गया है।

३. इन संक्षिप्त नामों का विवरण संकेत-सूची में देखिए।

४. इसी से डॉ. पिशल् आदि पाश्चात्य विद्वानों ने आप्रं-भिन्न जैन प्राकृत-ग्रंथों को भाषा को 'जैन महाराष्ट्री' नाम दिया है। देखो डॉ. पिशल् का प्राकृतव्याकरण और डॉ. टेसेटोरी की उपदेशमाला की प्रस्तावना।

५. हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण का सूत्र १, १८०।

तुलना की सुविधा के लिए प्राक्श्रयपताग्रहण वहीं वहीं रेफरेंसवाले शब्द में 'अ' के स्थान में 'य' और 'व' की जगह 'अ' किया गया है।

आपें ग्रन्थों में यश्रुतिवाले 'य' की तरह 'त' का प्रयोग भी बहुत ही पाया जाता है, जैसे 'अय' (अज) के स्थान में 'अत', 'प्रदय' (प्रतीत) की जगह 'अतीत' आदि। ऐसे शब्दों की भी इस कोप में बहुधा पुनरावृत्ति न करके तन्वित शब्दों की ही विशेष रूप में स्थान दिया गया है।

६. संयुक्त शब्दों को उनके क्रमिक स्थान में अलग न देकर मूल (पूर्व भागवाले) शब्द के भीतर ही उत्तर भागवाले शब्द अकारादि क्रम के काले टाइपों में दिए गए हैं और उसके पूर्व (उच्च विन्दी) का चिह्न दिया गया है। ऐसे शब्द का संयुक्त प्रतिशब्द भी काले टाइपों में चिह्न दे कर दिए गए हैं। विशेष स्थानों में पाठकों की सुगमता के लिए संयुक्त शब्द उसके क्रमिक स्थान में अलग भी अक्षरों में दिए गए हैं और उसके अर्थ तथा रेफरेंस के लिए मूल शब्द में जहाँ वे दिए गए हैं देखने की सूचना दी गई है।

(क) इन संयुक्त शब्दों में जहाँ 'द्वि'—'ने' लिख शब्द को देखने को कहा गया है वहाँ उस शब्द के उनी मूल शब्द के भीतर देवना चाहिए न कि अन्य शब्द के अन्दर।

७. त, त्त (त्त), आ, या (तत्), अर, यर, तराग (तर), अम, तम (तम) आदि सुगम और सर्वत्र-साधारण प्रत्ययवाले शब्दों में प्रत्ययों को छोड़कर केवल मूल शब्द ही यहाँ लिए गए हैं। परन्तु जहाँ ऐसे प्रत्ययों में रूप आदि की विशेषता है वहाँ प्रत्यय-सहित शब्द भी लिए गए हैं।

८. धातुओं के सब रूप सादे टाइपों में और कृदन्तों के रूप काले टाइपों में धातु के भीतर दिए गए हैं।

(क) भाव तथा कर्म-वर्तारि रूपों का निर्देश भी धातु के भीतर 'कर्म—' से ही किया गया है।<sup>१</sup>

(ख) मूठ कृदन्त के रूप तथा अन्य आस्थान तथा कृदन्त के विशिष्ट रूप बहुधा अलग अलग अपने क्रमिक स्थान में दिए गए हैं।

९. जिन संस्करणों से शब्द संग्रह किया गया है उनमें रही हुई संग्रहण की या प्रेम की भूलों को सुधार कर शुद्ध शब्द ही यहाँ दिए गए हैं। पाठकों के ज्ञानार्थ साधारण भूतों को छोड़कर विशेष भूलवाले पाठ रेफरेंस के उल्लेख के अनन्तर पूर्व में उद्यो के र्यों उद्धृत भी किये गए हैं और भूलवाने भाग की शुद्धि काँस में '१' (शङ्काचिह्न) के बाद बतला दी गई है; जैसे देखो क्षोत्रभ, वचभ आदि शब्द।

(क) जहाँ भिन्न भिन्न ग्रंथों में या एक ही ग्रंथ के भिन्न भिन्न स्थानों में या संस्करणों में एक ही शब्द के अनेक सदिग्ध रूप पाये गए हैं और जिनके शुद्ध रूप का निर्णय करना कठिन जान पडा है वहाँ पर ऐसे रूपवाले सब शब्द इस कोप में यथास्थान दिए गए हैं और तुलना के लिए ऐसे प्रत्येक शब्द के अन्त भाग में 'द्वि—' लिख कर अक्षर रूप भी सूचाया गया है, जैसे देखो 'पुष्पलच्छिभय, पौष्पलच्छिलय'; 'पेसल, पेसलेन, 'भयालि, मयालि' आदि शब्द।

१०. एक ही ग्रंथ के एक या भिन्न भिन्न संस्करणों के अथवा भिन्न भिन्न ग्रंथों के पाठ-भेदों के सभी शुद्ध शब्द इस कोप में यथास्थान दिए गए हैं; जैसे—परिष्कम्भिय (भगवतीमूत्र २५—पत्र ६२३) और परिष्कम्भिय (भग २५ टी—पत्र ६२५), गिन्धिवेद्वज (भी. मा. का सूत्रकृताग १, २, ३, १२) और गिन्धिवेद्वज (आ स का सूत्रकृताग १, २, ३, १२), पचिरल्लिय (आ. स. का प्रश्नव्याकरण १, ५—पत्र ६१) और पचित्यरिह (अभियानराजेन्द्र का प्रश्नव्याकरण १, ५), सामकोट्ट (समवायाग-सूत्र, पत्र १५३) और सामिकुट्ट प्रवचनमारोद्धार, द्वार ७) प्रभृति।

११. संस्कृत की तरह प्राकृत में भी कम ने कम शब्द के आदि के 'व' तथा 'व' के विषय में गहरा मत-भेद है। एक ही शब्द कहीं वकारादि पाया जाता है तो कहीं वकारादि। जैसे भगवतीमूत्र में 'वत्यि' है तो विपाकश्रुत में 'वत्यि' छपा है। इससे ऐसे शब्दों को दोनों स्थानों में न देकर जो 'व' या 'व' उचित जान पडा है उसी एक स्थल में वह शब्द दिया गया है और अन्य प्रकार के शब्दों के रेफरेंस भी वहाँ ही दिये गये हैं। हाँ, जहाँ दोनों अक्षरों के अन्तित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख पाया गया है वहाँ दोनों स्थानों में वह शब्द दिया गया है, जैसे 'वप्फाडल' और 'वप्फाडल'<sup>१</sup> आदि।

१२. लिङ्गादि-बोधक सक्षिप्त शब्द प्राकृत शब्द से ही सवन्ध रखते हैं, संस्कृत-प्रतिशब्द से नहीं।

(क) जहाँ अर्थ-भेद में लिङ्ग आदि का भी भेद है वहाँ उस अर्थ के पूर्व में ही भिन्न लिङ्ग आदि का सूचक शब्द दे दिया गया है। जहाँ ऐसा भिन्न शब्द नहीं दिया है वहाँ उसके पूर्व के अर्थ या अर्थों के नमान ही लिङ्ग आदि समझना चाहिए।

(ख) प्राकृत में लिंग-विधि सूत्र ही अनियमित है। प्राकृत वैयाकरणों ने भी कुछ अति सक्षिप्त परन्तु व्यापक सूत्रों के द्वारा इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्राचीन ग्रंथों में एक ही शब्द का जिस-जिस लिंग में योग जहाँ तक हमें दृष्टिगोचर हुआ है, उस-उस लिंग का निर्देश इस कोप में उस शब्द के पास कर दिया गया है। जहाँ लिंग में विशेष विलक्षणता पाई गई है वहाँ उस ग्रथ का अवतरण भी दे दिया गया है।

(ग) जहाँ स्त्रीलिंग का विशेष रूप पाया गया है वहाँ उस अर्थ के वाद 'स्त्री—' निर्देश करके रेफरेंस के साथ दिया गया है।

(घ) प्राकृत में अनेक ग्रंथों में अव्यय के वाद विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसे स्थानों में अव्यय-सूचक 'अ' के वाद प्रायः लिंग बोधक शब्द भी दिया गया है, जैसे 'वल्ग' के वाद 'अ. स्त्री' = (अव्यय तथा स्त्रीलिंग)।

२३. देश्य शब्दों के संस्कृत-प्रतिशब्द के स्थान में केवल देश्य का संक्षिप्त रूप 'दे' ही काले टाइपो में कोष्ठ में दिया गया है।

(क) जो धातु वास्तव में देश्य होने पर भी प्राकृत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्याकरणों में संस्कृत धातु के आदेश कह कर तद्भव बतलाये गये हैं उनके संस्कृत-प्रतिशब्द के स्थान में 'दे' न देकर प्राचीन वैयाकरणों की मान्यता बतलाने के उद्देश्य से वे आदेशि संस्कृत रूप ही दिये गये हैं। इससे संस्कृत से विलकुल विसदृश रूपवाले इन देश्य धातुओं को वास्तविक तद्भव समझने की भूल कोई न करे।

(ख) जो धातु तद्भव होने पर भी प्राकृत व्याकरणों में उसको अन्य धातु का आदेश बतलाया गया है उस धातु के व्याकरण-प्रदर्शित आदेशि संस्कृत रूप के वाद वास्तविक संस्कृत रूप भी दिखलाया गया है यथा पेच्छ के [ छञ्, प्र + ईक्ष् ] आदि।

(ग) प्राचीन ग्रंथों में जो शब्द देश्य रूप से माना गया है परन्तु वास्तव में जो देश्य न होकर तद्भव ही प्रतीत होता है, ऐसे शब्दों का संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है और प्राचीन मान्यता बतलाने के लिए संस्कृत प्रतिशब्द के पूर्व में 'दे' दिया गया है।

(घ) जो शब्द वास्तव में देश्य ही है, परन्तु प्राचीन व्याख्याकारों ने उसको तद्भव बतलाते हुए उसके जो परिमार्जित—छिल-छाल कर बनाये हुए संस्कृत-रूप अपने ग्रंथों में दिये हैं, परन्तु जो संस्कृत-कोपो में नहीं पाये जाते हैं, ऐसे संस्कृत-प्रतिरूपों को यहाँ स्थान न देते हुए केवल 'दे' ही दिया गया है।

(ङ) जो शब्द देश्य रूप से सदिग्ध है उसके प्रतिशब्द के पूर्व में 'दे' भी दिया है।

२४. प्राचीन व्याख्याकारों के दिये हुए संस्कृत-प्रतिशब्द से भी जो अधिक समानतावाला संस्कृत प्रतिशब्द है वही यहाँ पर दिया गया है, जैसे 'सहाणिय' के प्राचीन प्रतिशब्द 'स्नापित' के बदले 'स्नानित'।

२५. अनेक अर्थवाले शब्दों के प्रत्येक अर्थ १, २, ३ आदि अर्थों के वाद क्रमशः दिये गये हैं और प्रत्येक अर्थ के एक या अनेक रेफरेंस उस अर्थ के वाद सादे ब्रकेट में दिये हैं।

(क) धातु के निवृत्त-रूपवाले रेफरेंसों में जो-जो अर्थ पाये गये हैं वे सब १, २, ३ के अर्थों से देकर क्रमशः धातु के भाष्यात तथा कृदन्त के रूप दिये गये हैं और उस-उप रूपवाले रेफरेंस का उल्लेख उन्ही रूप के वाद ब्रकेट में कर दिया गया है।

(ख) जिस शब्द का अर्थ वास्तव में सामान्य या व्यापक है किन्तु प्राचीन ग्रंथों में उसका प्रयोग प्रकरण-वश विशेष या प्रकीर्ण अर्थ में हुआ है, ऐसे शब्द का सामान्य या व्यापक अर्थ ही इस कोप में दिया गया है, यथा—'हृत्विचग' का प्रकरण-वश होता 'हाय' के योग्य आभूषण यह विशेष अर्थ यहाँ पर न देकर 'हाय-सम्बन्धी' यह सामान्य अर्थ ही दिया गया है। 'एकवृत्त (नाक्षत्र)' आदि तद्धितान्त शब्दों के लिए भी यही नियम रखा गया है।

२६. शब्द-रूप, निग, अर्थ की विशेषता या मुभापित की दृष्टि से जहाँ अवतरण देने की आवश्यकता प्रतीत हुई है वहाँ पर वह, पर्याप्त अर्थ में, अर्थ के वाद और रेफरेंस के पूर्व में दिया गया है।

(क) अवतरण के वाद कोष्ठ में जहाँ अनेक रेफरेंसों का उल्लेख है वहाँ पर केवल सर्व प्रथम रेफरेंस का ही अवतरण से सर्वन्व है, शेष का नहीं।

२७. एक ही ग्रथ के जिन अनेक संस्करणों का उपयोग इस कोप में किया गया है, रेफरेंस में साधारणतः संस्करण-विशेष का उल्लेख न करके केवल ग्रथ का ही उल्लेख किया गया है। इससे ऐसे रेफरेंसवाले शब्दों को सब संस्करणों का या संस्करण विशेष का समझना चाहिए।

(क) जहाँ पर सस्करण-विशेष के उल्लेख की खास आवश्यकता प्रतीत हुई है वहाँ पर रेफरेंस की संकेत-सूची में शिथे हुए संस्करण के १, २ आदि अंक रेफरेंस के पृथं में दिये हैं, जैसे पेसल और पेसलोस शब्दों के रेफरेंस 'पाचा' के पृथं में '२' का अंक आगमोदय-समिति के सस्करण का और '३' का अंक प्रो० रवजी नार्द के सस्करण का बोधक है ।

१८. जहाँ कहीं प्राकृत के किसी शब्द के रूप की, अर्थ की अथवा संयुक्त शब्द आदि की समानता या विशेषता के लिये प्राकृत के ही ऐसे शब्दान्तर की तुलना बतलाना उपयुक्त जान पड़ा है वहाँ पर रेफरेंस के बाद 'देखो—' से उन शब्दों को देने की सूचना की गई है ।
१९. जहाँ कहीं 'देखो' के बाद काने टाइपो में दिये हुए प्राकृत शब्द के अनन्तर सादे टाइपो में निगादि-बोधक या संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है वहाँ उसी लिंग आदिवाले या संस्कृत प्रतिशब्दवाले ही प्राकृत शब्द से मतनव है, न कि उसके समान एतर प्राकृत शब्द से । जैसे अ शब्द के 'देखो च अ' के च से पुलिग च की छोड़कर दूसरा ही अव्यय-भूत च शब्द, और आमार के 'देखो ऊमार = एमार' के 'ऊमार' से तीसरा ही ऊसार शब्द देखना चाहिए, पहले, दूसरे और चौथे ऊसार शब्द को नहीं ।

उक्त नियमों से अतिरिक्त जिन नियमों का अनुसरण इस कोष में किया गया है वे आधुनिक नूतन पद्धति के संस्कृत आदि कोषों के देखनेवालों से परिचित और सुगम होने के कारण छुलाने की जरूरत नहीं रखते ।

# पाइअ-सइ-महणवो ।

## ( प्राकृत-शब्द-महार्णवः )

णासिअ-दोस-समूहं, भासिअणेगंतवाय-ललिअत्य ।  
पासिअ-लोआलोअ, वदामि जिण महावीरं ॥ १ ॥

निष्कित्तिम-साउ-पर्यं, अइसइअ मयल-वाणि-परिणमिर ।  
वाय अवाय-रहिअ, पणमामि जिणिद-देवाण ॥ २ ॥

पाडअ-भासामइअ, अवलोइअ सत्य सत्यमइविटलं ।  
सइ-महणव णाम, रएमि कोस स-वण्ण-कर्म ॥ ३ ॥

## अ

अ पुं [अ] १ प्राकृत वर्ण-माला का प्रथम  
अक्षर ( हे १, १; प्रामा ) । २ विष्णु, कृष्ण  
( से १, १ ) ।

अ देखो च अ (श्रा १४, जो २, पउम ११३,  
१४, कुमा) ।

अ [दे] देखो इव, 'चदो भ' (प्राकृ ७६) ।

अं अ [अं] निम्न-लिखित अर्थों में से, प्रक-  
रण के अनुसार, किसी एक को बतलानेवाला  
अव्यय—१ निषेध, प्रतिषेध, 'अहंसण' (सुर  
७, २८८), 'भवनिसेहे मश्रोऽकाने' (विसे  
१२३२) । २ विरोध, उल्लानन, 'अवम्म'  
(गाया १, १८) । ३ अयोग्यता, अनुचितपन,  
'अयाल' (पउम २२, ८५) । ४ अलता, बोडा-  
पन, 'अचण' (गउठ), 'अचेल' (सम ४०) ।  
५ अभाव, अविद्यमानता, 'अगुण' (गउठ) ।  
६ भेद, मित्रता, 'अमणुस्स' (एांदि) । ७  
माहृश्य, तुल्यता, 'अचकखुदसण' (सम १५) ।  
८ अप्रशस्तता, बुरापन, 'अभाइ' (चान २६) ।  
९ लघुपन, छोटाई, 'अतड' (वृह १) ।

अ पु [क] १ सूर्य, सूरज (से ७, १३) । २  
अग्नि, आग । ३ मयूर, मोर (से ६, ४३) । ४

न पानी, जल (से १, १) । ५ शिखर, टोच  
(से ६, ४३) । ६ मस्तक, सिर (से ६, १८) ।  
अ वि [अं] उत्पन्न, जात (गा ६७१) ।  
अअं वि [दे] स्नेह-रहित, सूखा (दे १,  
१३) ।

अअर देखो अवर (पि १६५) ।

अअर देखो आयर (पि १६५) ।

अइ अ [अयि] १-२ समावना और आमन्त्रण  
अर्थ का सूचक अव्यय (हे २, २०५, स्वप्न  
५८) ।

अइ अ [अति] यह अव्यय नाम और धातु के  
पूर्व में लाता है और नीचे के अर्थों में से किसी  
एक को सूचित करता है—१ अतिशय, अति-  
रेक, 'अइल्लह', 'अइल्लति', 'अइल्लित' (श्रा  
१४, रमा, गा २१४) । २ उत्कर्ष, महत्त्व,  
'अइवेग' (कण) । ३ पूजा, प्रशंसा, 'अइजाय'  
(ठा ४) । ४ अतिक्रमण, उल्लघन, 'अइ-  
ल्लसो' (दस ५, ४, ४२) । ५ ऊपर, ऊंचा,  
'अइमंच', 'अइपडागा' (औप, गाया १, १) ।  
६ निन्दा, 'अइपडिय' (वृह १) ।

अइ अ [अति] सामर्थ्य-सूचक अव्यय, 'अइ-  
वहइ' (सूत्र १, २, ३, ५) ।

अइ सक [आ + इ] आगमन करना, आ  
गिरना, 'अइति नाराया' (स ३८३) ।

अइइ छो [अदिति] पुनर्वसु नक्षत्र का अवि-  
ष्टाता देव (सुज १०) ।

अइइ सक [अति+इ] १ उल्लघन करना । २  
गमन करना । ३ प्रवेश करना । वहु अइत  
(से ६, २६, कण) । संकृ अइच्च (सूत्र  
१, ७, २८) ।

अइउट्ट वि [अतिवृत्त] अतिगत, प्राप्त (सूत्र  
१, ५, १, १२) ।

अइच सक [अति + अच्च] १ अभिपेक  
करना, स्थानापन्न करना । २ उल्लघन करना ।  
३ अक दूर जाना (से १३, ८, ८६) ।

अइच्चिअ वि [अत्यश्चित] १ अभिपिक्त,  
स्थानापन्न किया हुआ (से १३, ८) । २ उल्ल-  
घित, अतिक्रान्त (से १३, ८) । ३ दूर गया  
हुआ (से १३, ८६) ।

अइच्च देखो अइच (से १३, ८) ।

अइच्चिअ देखो अइच्चिअ (से १३, ८) ।

अइल्लण न [अत्यश्चन] १ उल्लघन (से १३,  
३८) । २ आकर्षण, लीचाव (से ८ ६४) ।

अइत देखो अइइ = अति + इ ।

अइत वि [अनायन्] १ नहीं आना हुआ ।  
 २ जो जाना न जाता हो, 'गाहाहि पणइणीहि  
 य विच्छिन्न चित्तं श्रद्धतीहि' (वल्का ८) ।  
 अइदिय वि [अतीन्द्रिय] इन्द्रियो से जिसका  
 ज्ञान न हो सके वह (विने २८१८) ।  
 अइमुत्त देखो अइमुत्त (प्राक् ३२) ।  
 अइक्रम अक [अतिक्रम] उजरना, बीतना,  
 'दिवचणत्स समधो अइक्रमइ दुइरस्स रायम्स'  
 (सम्मत्त १७४) । देखो अइक्रम = अति +  
 क्रम ।  
 अइकाय पु [अनिकाय] १ नहोरा—जातीय  
 देवों का एक इन्द्र (ठा २) । २ रावण का एक  
 पुत्र (मि १६, ५६) । ३ वि बड़ा शरीरवाला  
 (गाया १, ६) ।  
 अइककन वि [अतिक्रान्त] १ अतीत, उजरा  
 हुआ, 'अइककतजोव्वणा' (ठा ५) । २ तीरां,  
 पार पहुँचा हुआ (आव) । ३ जिसने त्याग किया  
 हो वह, 'मव्वसिणोहाइककता' (भीम) ।  
 अइकम सक [अति + क्रम] १ उल्लंघन  
 करना । २ व्रत-नियम का आशिक रूप से  
 खण्डन करना, 'अइकमइ' (भग) । वक्क अइ-  
 क्कमन, अइकममाण (सुपा २३८, भग) ।  
 क अइकमणिज्ज (सूय, २, ७) ।  
 अइकम पुं [अतिक्रम] १ उल्लंघन (गा  
 ३४८) । २ व्रत या नियम का आशिक खण्डन  
 (ठा ३, ४) ।  
 अइकमण न [अतिक्रमण] नार देखो (नुपा  
 २३८) ।  
 अइकस वि [अनीक्षण] तीक्ष्णतारहित,  
 'अइकसा वेयरणी' (तदु ४६) ।  
 अइकस वि [अनीक्षण] अदृश्य, 'अइकसा  
 वेयरणी' (तदु ४-५) ।  
 अइगच्छ } अक [अति + गम्] १ उजरना,  
 अइगम } बीतना । २ सक पहुँचना । ३  
 प्रवेश करना । ४ उल्लंघन करना । ५ जाना,  
 गमन करना । वक्क अइगच्छमाण (गाया  
 १, १) । नक्क अइयच्च (आचा), 'अइगतूण  
 अनो' (विसे ६०४) ।  
 अइगम पु [अतिगम] प्रवेश (विसे ३८६) ।  
 अइगमण न [अतिगमन] १ प्रवेश-मार्ग  
 (गाया १, २) । २ उत्तरायण, सूर्य का उत्तर  
 दिशा में जाना (भग) ।

अइगय वि [दे] १ आया हुआ । २ जिसने  
 प्रवेश किया हो वह (दे १, ५७), 'सगुरुत्तम्मि  
 अइगयो, दिहा य सगउरउ तत्त' (उप ५६७  
 टी) । ३ न मागंका पीछना भाग (दे १,  
 ५७) ।  
 अइगय वि [अतिगत] अतिक्रान्त, उजरा हुआ,  
 'हिउत्तस्स अइगय वरिसमेण' (महा, से १०,  
 १८, विसे ७ टी) ।  
 अइगय वि [अनिगत] प्राप्त, 'एव बुद्धिमइ-  
 गयो गम्मे सवनइ बुद्धिमयो जीवो' (तदु  
 १३) ।  
 अइचिर अ [अनिचिरम्] बहूत काल तक  
 (गा ३८६) ।  
 अइच्च देखो अइच्च = अति + इ ।  
 अइच्छ सक [गम्] जाना, गमन करना ।  
 अइच्छ (हे ४, १६२) ।  
 अइच्छ सक [अति + क्रम] उल्लंघन करना ।  
 अइच्छ (आय ५१८) । वक्क अइच्छत्त  
 (उत्त १८) ।  
 अइच्छा त्री [अदित्सा] १ देने की अनिच्छा ।  
 २ प्रत्याख्यान विशेष (विसे ३००४) ।  
 अइच्छिय वि [गत] गया हुआ, उजरा हुआ  
 (पउम २, १०२, उप पु १३३) ।  
 अइच्छिय वि [अतिक्रान्त] अतिक्रान्त, उल्लं-  
 घित (पाम्, विसे ३५८०) ।  
 अइजाय पुं [अतिजात] पिता से अधिक  
 संपत्ति को प्राप्त करनेवाला पुत्र (ठा ४) ।  
 अइइ वि [अइए] १ जो न देखा गया हो  
 वह । २ न कर्म, दैव, नाग्य (नवि) । ३ उच्च,  
 ० पुव्व वि [० पूर्व] जो पहले कभी न देखा  
 गया हो वह (गा ४१४, ७८८) ।  
 अइइ वि [अइए] जो देखा न गया हो वह  
 (हास्य १४६) ।  
 अइइ वि [अनिष्ट] १ अप्रिय । २ खराब, दुष्ट,  
 'जो पुणु खलु बुद्धु अइइसु, तो किमन्न-  
 त्यउ देइ अउ' (नवि) ।  
 अइइ सक [अति + स्था] उल्लंघन करना ।  
 सक अइइय (उत्त ७) ।  
 अइइय वि [अतिष्ठित] अतिक्रान्त, उल्लंघित  
 (उत्त ७) ।  
 अइण न [दे] गिरि-नट, तण्डई, पहाड़ का  
 निम्न भाग (दे १, १०) ।

अइण न [अजिन] धर्म, चमटा (पाम्) ।  
 अइणिय वि [दे अतिनीत] आनीत, साधा  
 हुआ (दे १, २४) ।  
 अइणिय वि [अतिनीत] १ फँस हुआ (से  
 अइणीय ६, ५६) । २ जो दूर न जाया  
 गया हो (पाम्) ।  
 अइणीअ वि [अतिगत] गन, गया हुआ (सुव  
 २, १३) ।  
 अइणीय वि [दे अतिनीत] आनीत, लया  
 हुआ (महा) ।  
 अइणु वि [अतिनु] जिसने मौजा का उल्लं-  
 घन किया हो वह, जहाज से उतरा हुआ  
 (पु) ।  
 अइतह रि [अविनय] सत्य, सत्ता (उप  
 १०३१ टी) ।  
 अइतेया त्री [अतिनेजा] पल की चौदहवीं  
 रात (सुवज १०, १४) ।  
 अइटपज्ज न [दिटंपय] तारण्य, रहस्य, नावार्थ  
 (उप ८६४, ८७६) ।  
 अइटुसमा } त्री [अनिटुसमा] देवो दुम्म-  
 अइटुम्ममा } मटुम्ममा (पउम २०, ८३,  
 अइटुम्ममा } ६०, उप पु १७७) ।  
 अइटपज्ज देवो अइटपज्ज (पचा १४) ।  
 अइथाडिय वि [अनिप्राटित्व] फिराया हुआ,  
 घुमाया हुआ (परह १, ३) ।  
 अइनिटुहायग वि [अतिविष्टमभन] नन्ध  
 करनेवाला, रोकनेवाला (कुमा) ।  
 अइन्न न [अजीर्ण] १ बद्धवमी, अपच । २  
 वि जो हजम न हुआ हो वह । ३ जो पुराना  
 न हुआ हो, नूतन (उव) ।  
 अइन्न वि [अइत्त] नहीं दिया हुआ । १ याग  
 न [० वान] चोरो (आचा) ।  
 अइपडुक्कवगमिला ती [अनिपाण्डुक्कमल-  
 गिया] मेरु पवनपर स्थित दक्षिण दिशा की  
 एक गिना (ठा ४) ।  
 अइपडाग पु [अतिपताक] १ मत्स्य की एक  
 जाति (विचा १, ८) । २ लो पताका के  
 ऊपर की पताका (गाया १, १) ।  
 अइपरणाम वि [अतिपरिणाम] आचर्य-  
 कता न रहने पर भी अपवाद-मार्ग का ही  
 आशय लेनेवाला, शास्त्रोक्त अपवादों की मर्यादा  
 का उल्लंघन करनेवाला,

‘जो दब्बखेतकालभावकय ज जहि जया काले ।  
तल्लेमुमुत्तमई, अइपरिणाम वियाणाहि’  
(वृह १) ।

अइपाइअ वि [अतिपातिक] हिंसा करनेवाला  
(सूत्र २, १, ५७) ।

अइपास पु [अतिपार्श्व] भगवान् अरनाय  
के समकालिक ऐरवत क्षेत्र के एक तीर्थकर-  
देव (तित्य) ।

अइपास सक [अति + दृश्] अतिशय  
देखना, खूब देखना । अइपासइ (सूत्र १, १,  
४, ६) ।

अइप्पगे अ [अतिप्रगे] पूर्वं-प्रभात, वही  
सवेर (सुर ७, ७८) ।

अइप्पमाण वि [अतिप्रमाण] १ तृप्तन होता  
हुआ भोजन करनेवाला । २ न तीन बार से  
अधिक भोजन (पिंड ६४७) ।

अइप्पसग पुं [अतिप्रसङ्ग] १ अतिपरिचय  
(पञ्चा १०) । २ तर्क-शास्त्र में प्रसिद्ध अति-  
व्याप्ति-नामक दोष (स १६६; उवर ४८) ।

अइप्पसगि वि [अतिप्रसङ्गिन्] अतिप्रसग  
दोषवाला (अज्ज १०) ।

अइप्पहाय न [अतिप्रभात] वही सवेर (गा  
६८) ।

अइवल वि [अतिवल] १ बलिष्ठ, शक्ति-शाली  
(शौप) । २ न अतिशय बल, विशेष सामर्थ्य ।  
३ बड़ा सैन्य (हिं ४, ३५४) । ४ पु एक  
राजा, जो भगवान् ऋषभदेव के पूर्विय चतुर्थ  
भव में पिता या पितामह था (आत्त) । ५  
भरत चक्रवर्ती का एक पौत्र (ठा ८) । ६  
भरत क्षेत्र में आगामी चौबीसी में होनेवाला  
पाँचवा वामुदेव (सम ५) । ७ रावण का एक  
योद्धा (पउम ५६, २७) ।

अइभडा स्त्री [अतिभद्रा] भगवान् महावीर  
के प्रमान नामक ग्यारहवें गणधर की माता  
(आत्त) ।

अइभूइ पु [अतिभूति] एक जैन मुनि, जो  
पचम वामुदेव के पूर्व-जन्म में गुरु थे (पउम  
२०, १७६) ।

अइभूमि स्त्री [अतिभूमि] १ परम प्रकंपं ।  
२ बहुत जमीन (सि ३, ४०) । ३ गृहस्थो  
के घर का वह भाग, जहाँ साधुश्रो का प्रवेश

करने की अनुज्ञा न हो, ‘अइभूमि न गच्छेत्वा,  
गोयरगगग्नो मुणी’ (दस ५, १, २४) ।

अइमद्विया स्त्री [अतिमृत्तिका] कीचवाली  
मट्टी (जीव ३) ।

अइमत्त } वि [अतिमात्र] बहुत, परिमाण  
अइमाय } से अधिक (उव ठा ६) ।

अइमुंक } पु [अतिमुक्त, °क] १ स्वनाम  
अइमुन } ख्यात एक अन्तकृद् (उसो जन्म में  
अइमुंतय } मुक्ति पानेवाला) जैन मुनि, जो  
अइमुत्त } पोलासपुर के राजा विजय का पुत्र  
अइमुत्तय } था और जिसने बहुत छोटी ही  
उम्र में भगवान् महावीर के पास  
दीक्षा ली थी (अन्त) । २ कंस  
का एक छोटा भाई (आव) । ३  
बृक्ष-विशेष (पउम ४२, ८) । ४  
माववी लता (पात्र, स ३५) ।  
५ न अन्तगडदसा नामक अंग-ग्रन्थ  
का एक अध्ययन (अन्त) । (हिं १,  
२६, १७८, पि २४६) ।

अइय वि [अतिग] अतिक्रान्त, ‘अन्वो अइअ-  
म्मि तुमे, एवरं जइ सान जूरिहिड’ (हिं  
२, २०४) । २ करनेवाला, ‘ठाणाइय’  
(शौप) ।

अइय वि [अतिग] प्राप्त (राय १३४) ।

अइय वि [दयित] १ प्रिय, प्रीतिपात्र । २  
दया-पात्र, दया करने योग्य (से ६, ३१) ।

अइयच्च देखो अइगच्छ ।

अइयण न [अत्यदन] बहुत खाना, अधिक  
भोजन करना (वव २) ।

अइयय वि [अतिगत] गया हुआ (स  
३०३) ।

अइयर सक [अति + चर्] १ उल्लघन  
करना । २ व्रत को दूषित करना । वक्र  
अइयरत (सुपा ३५४) ।

अइया सक [अति + या] जाना, गुजरना  
(उत्त २०) ।

अइया स्त्री [अजिजा] बकरी, छागी (उप  
२३७) ।

अइया स्त्री [दयिता] स्त्री, पत्नी (से ६,  
३१) ।

अइयाण न [अतियान] १ गमन, गुजरना ।

२ राजा बगैरह का नगर आदि में धूम-धाम  
से प्रवेश करना (ठा ४) ।

अइयाय वि [अतियात] गया हुआ, गुजरा  
हुआ (उत्त २०) ।

अइयार पु [अतिचार] उल्लघन, अतिक्रमण  
(भवि) । २ गृहीत व्रत या नियम में दूषण  
लगाना (आ ६) ।

अइर अ [अचिर] जल्दी, शीघ्र (स्वप्न ३७) ।  
अइर न [अजिर] आगन, चौक (पात्र) ।

अइर पु [दे] प्रायुक्त, गावका राज-नियुक्त  
मुखिया (दे १, १६) ।

अइर न [दे अतर] देखो अयर = अतर  
(सुपा ३०) ।

अइर वि [दे] अनिरोहित (पिंड ५६०,  
५६१) ।

अइरजुवड स्त्री (दे) नई वहू, दुलहिन (दे १,  
४८) ।

अइरत्त पु [अतिरात्र] अधिक तिथि, ज्योतिष  
की गिनती से जो दिन अधिक होता है वह  
(ठा ६) ।

अइरत्त वि [अतिरक्त] १ गाढा लाल । २  
विशेष रागी । °कम्बलसिला, °कम्बला स्त्री  
[°कम्बलशिला, कम्बला] मेरु पर्वत के  
पाहूक वन में स्थित एक शिला, जिमपर  
जिनदेवो का जन्माभिषेक किया जाता है  
(ठा २, ३) ।

अइरा अ [अचिरात्] शीघ्र, जल्दी (से  
३, १५) ।

अइरा स्त्री [अचिरा] पाचवें चक्रवर्ती और  
मोलहवे तीर्थकर-देव की माता (सम  
अइराणी १५२, पउम २०, ४२) ।

अइराणी स्त्री [दे] १ इन्द्राणी । २ सीभाग्य के  
लिए इन्द्राणी-व्रत करनेवाली स्त्री (दे १, ५८) ।

अइरावण पु [ऐरावण] इन्द्र का हाथी (पात्र) ।  
अइरावय पु [ऐरावत] इन्द्र का हाथी (भवि) ।

अइराहा स्त्री [अचिराभा] विजली, चपला  
(दे १, ३४ टी) ।

अइरि न [अतिरि] घन या मुवरों का अति-  
क्रमण करनेवाला, घनाच्छ (पड्) ।

अइरिंप पु [दे] कथावन्व, वातचीत, कहानो  
(दे १, २६) ।



अइरिच वि [अतिरिक्त] १ वचा हुआ, अव-  
गिष्ट (पद्य ११८, ११९) । २ अतिक, ज्यादा  
(ज २, १), 'पक्वमाणाइरिचगुणानिभ्रो'  
(नार्व ६३) । 'सिञ्जासणिय वि [शय्या-  
सन्निक] लम्बी-बौड़ी शय्या और आसन रखने-  
वाला (सावु) (आच) ।

अवस्व वि [अतिरूप] १ सुख्य, मुटोल  
(पद्य २०, ११८) । २ पु मूत-जातीय देव-  
विशेष (पण १) ।

अइरेइय वि [अतिरेकित] अतिरेक-युक्त, अति-  
प्रवृत्त (गय ७८ टी) ।

अइरेग पु [अतिरेक] १ आविश्य, अविक्तता,  
'माइरेगइइवानजायव' (गाया १, ५) । २  
अतिशय (जीव ३) ।

अइरेण } अ [अचिरेण] जन्दी, शीघ्र (सा  
अइरेण } १२५, पद्य ६२, ४, उवर ४८) ।

अइरेय देवो अइरेग (गाया १, १) ।

अटअ अ [अतीव] अतिशय, अत्यन्त,  
गिन अद्व महत्,

चिट्ठ मज्झिमि तन्म भवणन् ।

ता त सव्व नुपुरि ।

अप्यायन्त करेवानु ॥' (महा) ।

अइवट्टग न [अतिवर्त्तन] उल्लघन, अति-  
क्रमण (आच) ।

अइवत्त नक [अति + वृत्] अतिक्रमण  
करना । अइवत्त (आच) ।

अइवत्तिय वि [अतिवर्त्तिक] १ जिञ्जका  
उल्लघन किया गया हो वह । २ प्रवान,  
मुन्य । ३ उल्लघन करनेवाला (आच) ।

अइवय नक [अति + वृत्] उल्लघन करना ।  
नइ अइवइत्ता (सूत्र २, २, ६५) ।

अइवय सव [अति + व्रज्] १ उल्लघन  
करना । २ समुत्त जाना । ३ प्रवेश करना ।  
अइवयति (पण १, ०) । वहु 'नियगवयए  
अटवयत्त गय नुमिणे पाणिनाएणं पडिबुद्धा'  
(गाया १, १, कप्प) ।

अटवय सव [अति + पन्] उल्लघन करना ।  
२ सम्भव करना । ३ प्रवेश करना । ४ अक  
मग्ना । ५ गिरगाना, 'अवरे रण-सोस-नद-  
पत्ता सगानम्मि अइवयति' (पण १, ३),  
'नोनपथा समार अइवयति' (पण १, ५) ।  
वट जर वा नयेरव्व-विगानिणिणं सरीर

वा अइवयमाणि निवारिणि' (गाया १, ०),  
अइवयंत (कप्प) । प्रयो. अइवाएमाण  
(आच, ठ ७) ।

अइवह सव [अति + वह] वहन करने मे  
समर्थ होना । अइवहइ (सूत्र १, २, ३, ५) ।

अइवाड वि [अतिपातिन] १ हिंसक (सूत्र  
१, ५) । विनश्चर (विसे १५७८) ।

अइवाडत्तु वि [अतिपातयित्] मारनेवाला  
(ज ३, २) ।

अइवाइय वि [अतिपातिक] ऊपर देखो  
(सूत्र २, १) ।

अइवाएत्तु देवो अइवाइत्तु (ठ ७) ।

अइवाएमाण देवो अइवय = अति + पन् ।  
अइवाय पु [अतिपात] १ हिंसा आदि दोष  
(श्रोव ४६) । २ विनाश, 'पाणाइवाएण'  
(गाया १, ५) ।

अइवाय पु [अतिवात] १ उल्लघन । २ नय-  
कर पवन, तूफान (ज ७६८ टी) ।

अइवाह नक [अति + वाह्य] वीताना,  
गुजारना, 'नो अइवाहेइ दुल्लि दिणे' (वर्मवि  
३३) ।

अइविरिय वि [अतिवीर्य] १ वलिष्ठ, महा-  
पराक्रमी । २ पुं इक्ष्वाकु वंश का एक राजा  
(पद्य ५, ५) । ३ नन्दावर्त नगर का एक  
राजा (पद्य ३७, ३) ।

अइविसाल वि [अतिविशाल] १ बहुत बड़ा,  
विस्तीर्ण । २ श्री यमप्रभ नामक पर्वत के  
दक्षिण तरफ की एक नगरी (दीव) ।

अइम [अप] वि [ईदृश] ऐसा, इन तरह  
का (हे ४, ४०३) ।

अइमड वि [अतिशयिन] अतिशय वाला,  
विशिष्ट, आश्चर्य-कारक (सुपा २५८) ।

अइसडअ वि [अनिशयिन] ऊपर देखो  
(पाथ) ।

अटमंयण देखो अइमघाण, 'नित्तगाणति-  
सवरा न कायव्व' (पचा ७, २५) ।

अइसंघाग [अतिसंघान] व्याई, वंचना,  
'मियगाणइनघाणं सामयबुद्धी य जयणा व'  
(पचा ७) ।

अइमकगा ली [अतिपक्वकगा] उत्तेजना,  
प्रेरणा, बढावा (निसे) ।

अइमय सव [अति + र्जा] मान करना ।

वहु 'परवल्लम अइसयतो' (पद्य ६०,  
१०) ।

अइसय पु [अतिशय] १ श्रेष्ठता, उत्तमता  
(कुमा १, ५) । २ महिमा, प्रभाव, 'वयणा-  
इसरो' (महा) । ३ बहुत, अत्यन्त (सुर, १२,  
८१) । ४ चमत्कार (उर १, ३) । 'भरिय  
वि [भूत] पूर्ण, पूरा भरा हुआ (पाथ) ।

अइमरिय न [ऐरवट्ट] वैभव, संपत्ति, गौरव  
(हे १, १५१) ।

अइमाड वि [अतिशयिन] १ श्रेष्ठ (पद्य  
६ टी) । २ दूसरे को मात करनेवाला ।  
ली 'णी (सुपा ११४) ।

अइसायण न [अतिशयिन] उत्कृष्टता,  
उत्कर्ष (वेइय ५३३) ।

अइमार पु [अतिसार] नग्रहणी रोग, जठर  
की व्याधि-विशेष (नहुअ १५) ।

अइसेस पु [अतिशय] १ महिमा, प्रभाव,  
आध्यात्मिक नामधर्य (सम ५६) । २ वचा  
हुआ, अवशिष्ट (ज ४, २) । ३ अतिशय  
वाला (विसे ५५२) ।

अइसेसि वि [अतिशेपिन] १ प्रभावशाली,  
महिमान्वित । २ समृद्ध (राज) ।

अइसेसि वि [अतिशेपिन] १ महिमान्वित ।  
२ समृद्ध, जान आदि के अतिशय ने सम्पन्न  
(महि ४० टी) ।

अइसेमिय वि [अतिशेपित] ऊपर देखो  
(श्रोव ३०) ।

अइसेसिय वि [अतिशेपित] ज्ञात, जाना  
हुआ (वव १) ।

अइहर पु [अतिभर] हृद, अवधि, मयादा,  
'सत्तीय को अइहरो ?' (अच्छु २३) ।

अइहारा ली [दे] विजली, चपला (दे १,  
३८) ।

अइहि पु [अतिथि] जिनके आने की तिथि  
नियत न हो वह, पाहुन, यात्री, मिशुक, साधु  
(आच) । 'सविभाग पु [सविभाग] साधु  
को भोजन आदि का निदोष दान (वर्म ३) ।

अई सक [गम्] जाना, गमन करना । अईइ  
(हे ८, १६२, कुमा), अइति (गडड) ।

अईअ पु [अनीन] १ मूतकाल (पद्य ६०) ।  
२ वि जो वीत चुका हो, गुजरा हुआ, 'जे अ  
अईया सिद्धा' (पडि) । ३ अतिक्रान्त (सूत्र

१, १०; सार्व ४, वित्से ८०८) । ४ जो दूर हो गया हो (उत्त १५) ।

अईअ } अ [अतीव] बहुत, विशेष, अत्यन्त  
अईव } (भग २, १, परह १, २) ।

अईसंत वि [अ + दृश्यमान] जो दिखता न हो (सि १, ३५) ।

अईसय देखो अइसय (पद्म ३, १०५, ७५, २६) ।

अईसार पुं [अतीसार] रोग-विशेष, नरहणी रोग (मुख १, ३) ।

अईसार पु [अतीसार] १ सग्रहणी रोग ।  
२ इन नाम का एक राजा (ठा ५, ३) ।

अड देखो आड = झी, 'उल्लसिओ तमरुवो बलयागारो अउककाओ' (पव २५५) ।

अडअ न [अयुत] १ दस हजार की मध्या ।  
२ 'अउअग' को चौरासी लाख ने गुणने पर जो मध्या लव्व हो वह (ठा २, ४) ।

अडअग न [अयुताङ्ग] 'अउरिणर' को चौरासी लाख ने गुणने पर जो सख्या लव्व हो वह (ठा २, ४) ।

अउठ वि [अकुण्ठ] निपुण, कार्य-दक्ष (गउड) ।

अउचित्त न [अौचित्य] उचितपन (प्राक् १०) ।

अउउम्मा वि [अयोध्य] १ युद्ध में जिसका सामना न किया जा सके वह (सम १३७) ।  
२ जिम पर रिपु-सैन्य आक्रमण न कर सके ऐसा किला, नगर आदि (ठा ४) ।

अउउम्मा स्त्री [अयोध्या] नगरी-विशेष, इक्वा-कुवरा के राजाओ की राजधानी, विनीता, कोसला, सकेतपुर आदि नामों में विख्यात नगरी, जो आजकल भी अयोध्या नाम से ही प्रसिद्ध है (ठा २) ।

अउण वि [अकोन] जिसमें एक कम हो वह । यह शब्द बीस से लेकर तीस, चालीस आदि दहाई संख्या के पूर्व में लगता है और जिम्का अर्थ उस संख्या से एक कम होता है । 'दिठ स्त्री [अपट्टि] जननाड, ५६ (कप्प) । 'त्तरि स्त्री [असप्रति] उनसतर, ६६ (कप्प) । 'तीस स्त्री [अत्रिगत] उनतीस, २६ (राया १, १३) । 'सट्टि स्त्री [अपट्टि] उनसाठ, ५६ (कप्प) । 'पन्न, 'वन्न स्त्री

[अउणशत्] उनपचास, ४६ (जी ३०; पद्म १०२, ७०) । देखो एगूण ।

अउणतीसइ स्त्री देखो अउण-तीस (उत्त ३६, २४०) ।

अउणपपन्न देखो अउणापन्न (जीवम २०८) ।

अउणामट्टि देखो अउण-मट्टि (मुज्ज ६) ।

अउणोणित्ति स्त्री [अपुननिवृत्ति] अन्तिम निवृत्ति, मोक्ष (अउठु १०) ।

अउण्ण } न [अपुण्य] १ पाप (मुर ६,  
अउन्न } २-३) । २ वि. अपवित्र । ३ पुण्य-रहित, पापी (पद्म २८, ११२, मुर २, ५१) ।

अउम देखो ओम (गुमा १४) ।

अउमर वि [अउमर] जानेवाला, भन्नक (प्राक् २८) ।

अउल वि [अतुल] अनापारण, अद्वितीय (उप ७२८ टी, परह १, ४) ।

अउलीन वि [अकुलीन] कुल-हीन, कुनाति, मकर (गा २५३) ।

अउव्व वि [अपूर्व] अनोवा, अद्वितीय (गा ११६) ।

अउस पु [अदे] उपानक, पूजारी (प्रयी ८२) ।

अए अ [अये] आमन्त्रण-सूचक अव्यय (कप्प) ।

अओ अ [अतस्] १ यहा में लेकर (मुपा ४७८) । २ इनलिए, इस कारण से (उप ७३०) ।

अओ° [अयस्] लोह । 'घण पु [अघन] लोहे का हथौडा, 'मोसपि मिदति अओघ-रोहि' (सूत्र १, ५, २, १४) । 'मय वि [अमय] लोहे की बनी हुई चीज (सूत्र २, २) । 'मुह पु [अमुय] १-२ इस नाम का अन्तर्द्वीप और उसके निवासी (ठा ५) । ३ वि लोहे की माफिक मजबूत नुइ वाला, 'पन्नस्तीहि खज्जति अओमुहेहि' (सूत्र १, ५, २, ८) । 'मुही स्त्री [अमुही] एक नगरी (उप ७६८) ।

अओग्ग वि [अयोग्य] नालायक (न ७६८) ।

अओउम्मा देखो अउउम्मा (प्रति ११५) ।

अ अ [अदे] स्मरण-प्राप्तक अव्यय, 'अ दठुव्वा मालइलआ' (प्राक् ८०) ।

अऊ पुं [अऊ] १ उमग, कोला (म्बप २१६) । २ रत्न की एक जाति (कप्प) ।

३ नौ-की एक संख्या, 'कामी विक्रमवच्छरम्म य गए वाणकमुद्रोद्धवे' (मुर १६, २४६) ।

४ संख्या-दर्शक चिह्न, १, २, ३ (पएण २) । ५ नाटक का एक अंश, 'नुरणा मणु-स्तभवणाडएसु निज्जाइया अका' (धएण ४५) ।

६ सपेद मरिण की एक जाति (उत्त ३४) ।

७ चिह्न, निशान (चद २०) । ८ मनुष्य के वतीम प्रशस्त लक्षणों में से एक (परह १, ४) । ९ ग्रामत-विशेष (चद ४) । 'कण्ड पुन [अण्ड] रत्नप्रभा पृथ्वी के तर-कारण्ड का एक हिस्सा, जो अक रत्नों का है (ठा १०) । 'अरेहुग, 'करेहुअ पु [अकरेहुक] पानी में होनेवाली एक जाति की वनस्पति (आचा) । 'दिठ स्त्री [अदित्ति] अक रेखाओं की विचित्र स्थापना, ६४ कलाओं में एक कला (कप्प) । 'धर पु [अधर] चन्द्रमा (जीव ३) । 'वाइ स्त्री [अवात्ती] पांच प्रकार की घाई-माताओं में से एक, जिम्का काम बालक का उत्सग में ले उनका जी बहलाना है (राया १, १) । 'लिवि स्त्री [अलिपि] अठारह लिपियों में से एक लिपि, वर्णमाला-विशेष (सम ३५) । 'वणिय पु [अवणिक] अक-रत्नों का व्यापारी (राय) । 'वालि, 'वाली स्त्री [अपालि, अपाली] अलिगन (काप्र १६४) । 'हर देखो 'धर (जीव ३) ।

अऊ [अदे अऊ] निकट, समीप, पास (दे १, ५) ।

अऊ पुन [अऊ] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३२) ।

अऊकरेलुअ, 'ग देवो अऊ-करेलुअ (आचा २, १, ८, ५) ।

अऊण न [अऊण] १ चिह्नित करना (आव) । २ वैन आदि पशुओं को लोहे की गरम सलाई आदि से दागना (परह १, १) । ३ वि अकित करनेवाला, गिनती में लानेवाला, 'अकणं जोइ-सस्त सूर' (कप्प) ।

अऊणा स्त्री [अऊणा] ऊपर देखो (राया १, १७) ।

अऊदास पु [अऊदास] वापक को उमग में लेकर उमका जी बहलानेवाला नौकर (म्मत्त २१७) ।

अऊवाणिय देखो अऊ-वाणिय (राय १२६) ।

अंकार पुं [दे] सहायता, मदद (दे १, ६) ।  
 अंकावडे स्त्री [अङ्कावती] ? महाविदेह क्षेत्र  
 के रम्य नामक विजय की राजधानी (ठा २) ।  
 मेरु की पश्चिम दिशा में बहती हुई गीतोदा  
 महानदी की दक्षिण दिशा में वर्तमान एक  
 वक्षन्कार पर्वत (ठा ५, २) ।  
 अंकिअ न [दे] आलिन (दे १, ११) ।  
 अंकिअ वि [अङ्कित] चिह्नित, निशानवाला  
 (औप) ।  
 अंकिहल पु [दे] नट, नर्तक, नचर्वाया (राया  
 १, १) ।  
 अकुडग पुं [अङ्कुटक] नागदन्तक, खूंटो-  
 ताव (ज १) ।  
 अकुर पु [अङ्कुर] प्रगेह, फुनगी (जी ६) ।  
 अकुरिय वि [अङ्कुरित] अकुर-युक्त, जिसमें  
 अकुर उत्पन्न हुए हो वह (उवा) ।  
 अकुम पुं [अङ्कुरा] ? आकड़ी, लोहे का  
 एक हथियार, जिसमें हाथी चलाये जाते हैं,  
 'अकुसेण जहा रागो धम्मे मपडिवाइओ'  
 (उत्त २०) । २ ग्रह-विशेष (ठा २, ३) । ३  
 सीता का एक पुत्र, कुन (पउम ६७, १६) ।  
 ४ नियन्त्रण करनेवाला, काबू में रखनेवाला  
 (गडड) । ५ एक देव-विमान (राज) । ६ पुन  
 उरुचन्दन का एक दोष (पव २) ।  
 अकुम पुन [अङ्कुरा] ? एक देव-विमान  
 (देवेन्द्र १८०) । २ पु अकुराकार खूंटो  
 (राय ३०) ।  
 अकुसइय न [दे अकुशित] अकुश के आकार-  
 वाली चीज (दे १, ३८, से ६, ६३) ।  
 अकुसय पु [अङ्कुगक] देखो अकुस । २  
 सन्यानी का एक उपकरण, जिससे वह देव-  
 पूजा के वास्ते वृक्ष के पल्लवों को काटता है  
 (औप) ।  
 अकुमा स्त्री [अङ्कुरा] चौदहवें तीर्थंकर श्री  
 अनन्तनाथ भगवान् की शासन-देवी (पव २८) ।  
 अकुसिअ वि [अङ्कुशित] अकुश की तरह  
 मुड़ा हुआ (मे १४, २६) ।  
 अकुमी स्त्री [अङ्कुरी] देखो अकुसा  
 (सति १०) ।  
 अकूर देखो अकुर, 'ना पुण विरतमिता  
 निव्वहुरे विसेसेड' (सुअनि ६१ टी) ।

अंकेलण न [दे] घोडा आदि को मारने का  
 चाबुक, कौडा, श्रौंगी (जं ४) ।  
 अकेल्लि पु [दे] अशोक-वृक्ष (दे १, ८) ।  
 अकोहल पु [अङ्कोट] वृष-विशेष (हे १, २००) ।  
 अंग व पु [अङ्ग] ? इस नाम का एक देश,  
 जिमको आजकल विहार कहते हैं (सुर २,  
 ६७) । २ रामका एक मुमट (पउम ५६, ३७) ।  
 ३ न आचारण सूत्र आदि बारह जैन आगम-  
 ग्रन्थ (विपा २, १) । ४ वेदांग, वेद के शिक्षादि  
 छ अंग (आबू) । ५ कारण, हेतु (पव १) ।  
 ६ आत्मा, जीव (भवि) । ७ पुन शरीर  
 (प्रानू ८४) । ८ शरीर के मन्तक आदि ध्रुवयव  
 (कम्म १, ३४) । ९ अ मित्रता का आम-  
 न्दण, सम्बोधन (राय) । १० वात्सान्कार  
 में प्रयुक्त किया जाना अर्थ (ठा ४) । ११ पु  
 [जित्] इस नामका एक गृहस्थ, जिसने  
 भगवान् पारश्वनाथ के पास दोषा ली थी  
 (निग) । १२ इंसि पु [पिं] चपा नगरी का  
 एक ऋषि (आबू) । [चूलिया] स्त्री  
 [चूलिका] अंग-ग्रन्थों का परिशिष्ट (पञ्चि) ।  
 १३ छहिय वि [छिन्नाङ्ग] जिसका अंग  
 काटा गया हो वह (सूत्र २, २, ६३) ।  
 १४ जाय वि [जात] बच्चा, लडका (उप  
 ६४८) । १५ देवो 'य = द' (ठा ८) ।  
 १६ पविट्ट न [प्रविष्ट] ? बारह जैन अंग-ग्रन्थों  
 में से कोई भी एक (कम्म १, ६) । १७ अंग-  
 ग्रन्थों का ज्ञान (ठा २, १) । १८ वाहिर न  
 [वाह्य] ? अंग-ग्रन्थों के प्रतिरिक्त जैन आगम  
 (आबू) । १९ अंग-ग्रन्थों से मिला जैन आगमों का  
 ज्ञान (ठा २) । २० मग न [मङ्ग] ? अंग-प्रत्यय  
 (राय) । २१ हर एक अर्थयव (पड्) । २२ मंदिर  
 न [मन्दिर] चम्पा नगरी का एक देव-गृह  
 (मग १, १) । २३ मद्, 'मद्दय पु [मर्द,  
 'मर्दक] ? शरीर की चपी करनेवाला नौकर ।  
 २४ वि शरीर को मलनेवाला, चपी करनेवाला  
 (सुपा १०८, महा, मग ११, १) । २५ य पुं  
 [द] ? वाली नामक विद्यावरराज का  
 पुत्र (पउम १०, १०, ५६, ३७) । २६ न  
 वाबूदद, केहुटा (परह १, ४) । २७ य वि  
 [ज] ? शरीर में उत्पन्न । २८ पु पुत्र,  
 लडका (उप १३४ टी) । २९ चा स्त्री [जा]  
 कन्या, पुत्री (पाअ) । ३० रक्ख, 'रक्खग वि

[रक्ख, 'रक्खक] शरीर को रखा करनेवाला  
 (सुपा ५२७, इत) । ३१ राग, 'राय पुं [राग]  
 शरीर में चन्दनादि या विनेपन (श्रीप, गा  
 १८६) । ३२ राय पुं [राज] ? अगदेश का  
 राजा (उप ७६५) । अग देश का राजा कर्ण  
 (राया १, १६, वेगी १०४) । ३३ रिमि देवो  
 'इसि । ३४ रुह वि [रुह] देखो 'य = ज'  
 (सुपा ५१२, पउम ५६, ३२) । ३५ रुहा स्त्री  
 [रुहा] पुत्री, लडकी (सुपा १५०) । ३६ विजा  
 स्त्री [विद्या] ? शरीर के स्फुरण का शुभा-  
 शुभ फल बतलानेवाली विद्या (उत्त ८) । २ उस  
 नाम का एक जैन ग्रन्थ (उत्त ८) । ३७ वियार पु  
 [विचार] देखो पूर्वोक्त अर्थ (उत्त १५) ।  
 ३८ समूय वि [सभूत] सतान, बच्चा (उप  
 ६४८) । ३९ हारय पु [हारक] शरीर के  
 अर्थयवों के विशेष, हाव-भाव (अजि ३१) ।  
 ४० ाण न [दान] पुण्येन्द्रिय, पुण्य-विह  
 (निस्ती) ।

अग पु [अङ्ग] भगवान् प्रादिनाथ के एक पुत्र  
 का नाम (ती १४) । २ न लगातार बारह  
 दिनों का उपवास (सर्वोप ५८) । ३ ज देवो  
 'य (वर्मवि १२६) । ४ हर वि [घर] अङ्ग-  
 ग्रन्थों का जानकार (विचार ८७३) ।

अग वि [आङ्ग] ? शरीर का विकार (ठा  
 ८) । २ शरीर-संबन्धी, शारीरिक (नुय २,  
 २) । ३ न शरीर के स्फुरण आदि विकारों के  
 शुभाशुभ फल को बतलानेवाला शास्त्र, निमित्त-  
 शास्त्र (सम ४६) ।

अग वि [चङ्ग] मुन्दर, मनोहर (भवि) ।  
 अंगइया स्त्री [अङ्गटिका] एक नगरी, तीर्थ-  
 विशेष (उप ५५२) ।

अंगंगीभाव पु [अङ्गाङ्गीभाव] अमेद-भाव,  
 अभिन्नता, 'अंगंगीभावेण परिणएणधम्मरिस-  
 जिणएवम्मे' (सुपा २१८) ।

अगण न [अङ्गण] आंगन, चौक (सुर ३,  
 ७१) ।

अंगणा स्त्री [अङ्गना] स्त्री, श्रौस्त (सुर ३,  
 १८) ।

अगदिआ देखो अङ्गइया (ती) ।

अगवड्डण न [दे] रोग, बीमारी (दे १,  
 ४७) ।

अंगवलिज्ज न [दे] शरीर को मोड़ना (दे १, ४२) ।

अंगार पु [अङ्गार] १ जलता हुआ कोयला (हे १, ४७) । २ जैन माधुओं के लिए मित्रा का एक दोष (आचा) । ३ मद्ग पु [मर्दक] एक भ्रमव्य जैन-आचार्य (उप २५४) । ४ वड्ठी स्त्री [वती] मुमुक्षु नगर के राजा बुधुमार की एक कन्या का नाम (वम्म ८ टी) ।

अंगारग पु [अङ्गारक] १-२ ऊपर देखो अंगारय (गा २६१) । ३ मगल-ग्रह (परह १, ५) । ४ पहला महाग्रह (ठा २) । ५ राक्षस-वंश का एक राजा (पट्टम ५, २६२) ।

अंगारिय वि [अङ्गारित] कोयले की तरह जला हुआ, विवरण (नाट, आचा) ।

अंगाल देखो अंगार, 'निदड्डुगालनिम' (पिड ६७५) ।

अंगालग देखो अंगारग (राज) ।

अंगालिय न [द] ईत का टुकड़ा (दे १, २८) ।

अंगालिय देखो अंगारिय (आचा) ।

अंगि पु [अङ्गिन्] १ प्राणी, जीव (गण ८) । २ वि शरीरवाला । ३ अग-अन्यो का जाना (कप्प) ।

अंगिरस न [अङ्गिरस] एक गोत्र, जो गोतम-गोत्र की शाखा है (ठा ७) ।

अंगिरस वि [आङ्गिरस] १ अंगिरस-गोत्र में उत्पन्न (ठा ७) । २ पु एक तापस (पट्टम ४, ८६) ।

अगीकड } वि [अङ्गीकृत] स्वीकृत (ठा ५, अगीकय } सुपा ५२६) ।

अगीकर } सक [अङ्गी+क] स्वीकार अगीकुण } करना । अगीकरेइ (महा, नाट) ।

अगीकरेहि (न ३०६) नङ्क अगीकरेऊण (विसे २६४२) ।

अंगुअ पु [इङ्गुअ] १ वृक्ष-विशेष । २ न इण्ड वृक्ष का फल (हे १, ८६) ।

अंगुठु पु [अङ्गुठु] अण्डा (ठा १०) । ३ पसिण पु [अङ्गुठु] १ एक विद्या । २ 'प्रत्य-व्याकरण' सूत्र का एक नुप्त अव्ययन (ठा १०) ।

अंगुठ्ठी स्त्री [दे] सिरका भ्रवणुएठन, पूषट (दे १, ६, स २८४) ।

अंगुत्थल न [दे] अण्डा, अण्डालीय (दे १, ३१) ।

अंगुवभव वि [अङ्गोवभव] सतान, वचा (उप २६४) ।

अंगुम सक [पूर्य] पूरित करना, पूरा करना । अंगुमड (हे ४, ६८) ।

अंगुमिय वि [पूरित] पूर्ण किया हुआ (कुमा) ।

अंगुरि, री स्त्री [अङ्गुरि, ली] उगली (गा २७७) ।

अंगुल न [अङ्गुल] यव के आठ मध्यभाग के बराबर का एक नाप, मान-विशेष (भग ३, ७) । २ 'पोहत्तिय वि [पृथक्त्वक] दो मे लेकर नव अणुल तक का परिमाण वाला (जीव १) ।

अंगुलि स्त्री [अङ्गुलि] उगली (कुमा) । ३ कोस पु [कोश] अणुलि-प्राण, दास्ताना (राय) । ४ फोडण न [स्फोटन] उगली फोडना, कड़ाका करना (तहु) ।

अंगुलिअ } न [अङ्गुलीयक] अण्डा अंगुलिज्जक } (दे ५, ६, कप्प, पि २५७) । अंगुलिज्जग }

अंगुलिणी स्त्री [दे] प्रियवृ, वृक्ष-विशेष (दे १, ३२) ।

अंगुली स्त्री [अङ्गुली] देखो अंगुलि (कप्प) ।

अंगुलीय } पुन [अङ्गुलीयक] अण्डा अंगुलीयग } (सुर १०, ६४), 'पायवडि-एण सामिय । समणियो अंगुलीययो अंगुलीयक } अंगुलीययो तोए' (पट्टम ५४, अंगुलेयय } ६, सुर १, १३२, पि २५२, पट्टम ४६, ३९) ।

अंगुलेयग देखो अंगुलेयय (सुख २, २६) ।

अंगुवग } न [अङ्गोपाङ्ग] १ शरीर के अंगोवग } श्रवण (परण २३) । २ नव वगैरह शरीर के छोटे-छोटे श्रवण, 'नहकेसम-नुअणुलीओट्टा खनु अंगोवगारिण' (उत्त ३) । ३ णाम न [नामन्] शरीर के श्रवणों के निर्माण में कारण-भूत कर्म-विशेष (कम्म १, ३४, ४८) ।

अंगोहलि स्त्री [र] शिर को छोड़कर बाकी शरीर का स्नान (उप पु २३) ।

अंधो म्र [अङ्ग] भय-सूचक अव्यय (प्रति ३६, प्रयो २०५) ।

अच सक [कृप्] १ खीचना । २ जीतना, चांस करना । ३ रखा करना । ४ उठाना । अचइ (हे ४, १८७) । संकु अचेइत्ता (आव) । अच सक [अञ्च्] पूजना, पूजा करना । अचए (मवि) ।

अच सक [अञ्च्] जाना । अचति (पचा १६, २३), 'अञ्चु गड पुयणम्मि य', 'सोधीए पारमचइ' (वृह ४) ।

अंचल पु [अञ्चल] कपड़े का शेष भाग (कुमा) ।

अंचि पु [अञ्चि] गमन, गति (भग १५) ।

अचि पु [आञ्चि] आगमन, आना (भग १५) ।

अचिय वि [अञ्चित] १ युक्त, सहित (सुर ४, ६७) । २ पूजित (सुपा २१८) । ३ प्रशस्त, श्लाघित (प्रासू १८) । ४ न एक प्रकार का नृत्य (ठा ४, ४, जीव ३) । ५ एक वार का गमन (भग १५) । ६ यचि पु [अञ्चि] १ गमनागमन, आना जाना (भग १५) । २ ऊचा-नीचा होना (ठा १०) ।

अचियरिभिय ऋ [अञ्चितरिभित] एक तरह का नाट्य (राय ५३) । अचिया स्त्री [अञ्चिका] आकर्षण (स १०२) । अच सक [कृप्] १ खीचना, 'अचति वासु-देव अगडतडम्मि ठिय सत' (विसे ७६४) । २ अक लम्बा होना । वक अचमाण (विसे ७६०) । प्रयो अचवेह (राया १, १) ।

अचण न [कृष्ण] खीचाव (परह २, ५) । अचिय वि [दे] बाकृष्ट, खीचा हुआ (दे १, १४) ।

अंज सक [अञ्ज] आजना । कृ अजियव्य (म ५४३) । अजण पु [अञ्जण] १ कृष्ण पुद्गल-विशेष (सुख २०) । २ देव-विशेष (सिदि ६६७) ।

अजण पु [अञ्जण] १ पर्वत-विशेष (ठा ५) । २ एक लोकपाल देव (ठा ४) । ३ पर्वत-विशेष का एक शिखर, जो दिग्हस्ती कहा जाता है (ठा २, ३, ८) । ४ वृक्ष-विशेष (आव) । ५ न एक जाति का रत्न (राया १, १) । ६ देवविमान-विशेष (सम ३५) । ७ काजल, कजल (प्रासू ३०) । ८ जियका

सुरमा बनता है ऐसा एक पाथिव द्रव्य (जी ४) । ६ आत्तको आजना (सूत्र १, ६) । १० तैल आदिसे शरीर की मालिश करना (राज) । ११ लेप (म ५८२) । १२ रत्नप्रभा पृथिवी के खर-काएड का दगवां अश-विशेष (ठा १०) । °कंसिया स्त्री [°केशिका] वनस्पति-विशेष (परण १७, राय) । °जोग पु [°योग] कला-विशेष (कण्य) । °द्वीप पु [°द्वीप] द्वीप-विशेष (इक) । °पुल्य पु [°पुलक] एक जाति का रत्न (ठा १०) । २ पर्वत-विशेष का एक शिखर (ठा ८) । °पहा स्त्री [°प्रभा] चौथी नरक-पृथिवी (इक) । °रिट्ट पु [°रिष्ट] इन्द्र-विशेष (भग ३, ८) । °सलागा स्त्री [°शलाका] १ जैन-भूतिकी प्रतिष्ठा । २ अजन लगाने की सलाई (सूत्र १, ५) । °सिद्ध वि [°मिद्ध] ग्राह में अजन-विशेष लगाकर अदृश्य होने की शक्तिवाला (नित्री) । °सुन्दरी स्त्री [°सुन्दरी] एक सती स्त्री, हनुमान की माता (पट्टम १५, १२) ।

अंजणइसिया स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष, रयाम तमाल का पेड़ (दे १, ३७) ।

अजणई स्त्री [दे] वल्ली-विशेष (परण १) । अजणईम न [दे] देखो अजणइमिया (दे १, ३७) ।

अजणग देखो अजण ।

अजणा स्त्री [अजना] १ हनुमान की माता (पट्टम १, ६०) । २ स्वनाम-व्यात चौथी नरक-पृथिवी (ठा २, ४) । ३ एक पुष्करिणी (ज ४) । तणय पु [तनय] हनुमान (पट्टम ४७, २८) । °सुन्दरी स्त्री [°सुन्दरी] हनुमान की माता (पट्टम १८, ५८) ।

अजणाभा स्त्री [अजनाभा] चौथी नरक-पृथिवी (इक) ।

अजणिया स्त्री [दे] देखो अजणइसिया (दे १, ३७) ।

अंजणी स्त्री [अंजनी] कञ्ज का आचार-पात्र (सूत्र १, ४) ।

अजलि, °ली पुन्नी [अजलि] १ हाथ का सपुट (हे १, ३५) । एक या दोनों संकुचित हाथों को ललाट पर रखना, 'एोण वा दोहि वा मचलिहै हृत्वेहि एण्डालसमितेहि अजली भएणवि' (नित्र) । ३ कर-सपुट, नमस्कार

रूप विनय, प्रणाम (प्रासू ११० स्वप्न ६३) । °उड पुं [°पुट] हाथ का सपुट (महा) । °करण न [°करण] विनय-विशेष, नमन (दे) । °पग्गह पुं [°प्रग्रह] १ नमन, हाथ जोडना (भा १४, ३) । २ सनीग-विशेष (राज) ।

अजस वि (दे) ऋजु, नरल (दे १, १४) । अजिय वि [अजित] आज्ञा हृष्टा, अजन-युक्त किया हुआ (ने ६, ४८) ।

अजु वि [ऋजु] १ सरन, अकुटिन, 'अजुधम्मं जहा तच्च, जिणणं तह मुणेह मे' (सूत्र १, १: १, १, ४, ८) । २ समय में तत्पर, समयी, 'पुट्टोवि नाडवत्तइ अहु' (आना) । ३ स्पष्ट, व्यक्त (सूत्र १, १) ।

अजुआ स्त्री [अजुका] भगवान अनन्तनाय की प्रथम शिष्या (सम १५२) ।

अजू स्त्री [अजू] १ एक सार्धवाह की कन्या (विपा १, १०) । २ 'विपाकयुत' का एक अर्थव्ययन (विपा १, १) । ३ एक इन्द्राणी (ठा ८) । ४ 'जातावमंकर्या' सूत्र का एक अर्थव्ययन (राया २) ।

अंठि पुन [अस्थि] हड्डी, हाड (पड्), 'अहिअमहुरन्व अवंस अजोग्गदाए अएठी न भन्तीअदि' (जा ६) ।

अड } न [अएड, °क] १ अडा (कण्य-श्रीप) । २ अंड-कोश (महानि ४) । अडग } ३ 'जातावमंकर्या' सूत्र का तृतीय अर्थव्ययन (राया १, १) । °कड वि [°कृत] जो अएडे से बनाया गया हो, 'वंभणा माहणा एगे, आह अएडकडे जगे' (सूत्र १, ३) । °वध पुं [°धन्व] मन्दिर के शिखर पर न्वा जाता अएडाकार गोला (गडड) । °वाणियय पु [°वाणि-जक] अएडे का व्यापारी (विपा १, ३) ।

अडग } वि [अण्डज] १ अएडे से पैदा होनेवाले जंतु, पक्षी, साप, मछली वगैरह (ठा ३, १, ८) । २ रेशम का घागा । ३ रेशमी वस्त्र (उत्त २६) । ४ शण का वस्त्र (सूत्र २, २) ।

अडय पुं [दे, अएडज] मछली, मत्स्य (दे १, १६) ।

अडाअय वि [अएडज] अएडे से पैदा होने-वाला (पट्टम १०२, ६७) ।

अत पु [अन्न] १ स्वरूप, स्वभाव (से ६, १८) । २ प्रान्त भाग (से ६, १८) । ३ सीमा, हद (जी ३३) । ४ निक्कट, नजदीक (विपा १, १) । ५ भग, विनाश (विमे ३४५४, जी ८८) । ६ निर्णय, निश्चय (ठा ३) । ७ प्रदेश, न्यान, 'एगतमतमवक्कमड' (भग ३, २) । ८ राग श्रीर द्वेष, 'दोहि अनेहि अदिस्समारो' (आवा) । ९ रोग, बीमारी (विमे ३४५४) । १० वि इन्द्रियों को प्रति-कूल लगनेवाली बीज, अमुन्दर, नीरस वस्तु (परह २, ४) । ११ मनोहर, सुन्दर (से ६, १८) । १२ नीच, खुद, तुच्छ (कण्य) । °कर वि [°कर] उमी जन्म में मुक्ति पानेवाला (सूत्र १, १५) । °करण वि [°करण] नाराक (परह १, ६) । °काल पु [°काल] १ मृत्यु काल । २ प्रलय काल (से ५, ३२) । °किरिया स्त्री [°किया] मुक्ति, संसार का अन्त करना (ठा ८, १) । °कुल न [°कुल] खुद कुल (कण्य) । °गड वि [°कृत] उमी जन्म में मुक्ति पानेवाला (उम ४६१) । °गडदसा स्त्री [°कृदशा] जैन अण-त्रयों में आठवां अण-त्रय (अणु १) । °चर वि [°चर] भिक्षा में नीरस पदार्थों की ही खोज करनेवाला (परह २, १) ।

अंत वि [अन्त्य] अन्तिम, अन्त का (परण १५) । °कखरिया स्त्री [°क्षरिका] १ ब्राह्मी लिपि का एक नेद (परण १) । २ कला-विशेष (कण्य) ।

अन न [अन्न] आत (मुपा १८२, गा ५८५) ।

अत अ [अन्तर्] मध्य में, बीच में (हे १, १४) । °उर न [°पुर] देखो अतेउर (नाट) । °करण, °करण [°करण] मन, हृदय, 'कदण्णपरवत्तकरणेण' (उम ६ टी, नाट) । °गाय वि [°गत] मध्यवर्ती, बीचवाला (ह १, ६०) । °धा स्त्री [°धा] १ तिरोवान । २ नाश (आचु) । °धान न [°धान] अदृश्य होना, तिरोहित होना

(उप १३६ टी) । °द्वाणी स्त्री [°धानी] जिसने अदृश्य हो सके ऐसी विद्या (सूत्र २, २) । °द्वामूअ वि [°धामूत] नट, विगत 'नट्टेत्ति वा विगतैत्ति वा अतद्दामूतेत्ति वा एणट्ठा' (आच) । °प्पाअ पुं [°पात] अन्तर्भाव, समावेश (हे २, ७७) । °भाव पु [°भाव] समावेश (विसे) । °मुहुत्त न [°मुहूर्त] कुछ कम मुहूर्त, न्यून मुहूर्त (जी १४) । °रद्धा स्त्री [°धा] १ तिरोवान । २ नाश, 'बुड्ढी सइअन्तरद्धा' (आ १६) । °रद्धा स्त्री [°अद्धा] मध्य-काल, बीच का समय (आचा) । °रप्प पुं [°आत्मन्] आत्मा, जीव (हे १, १४) । °रहिय, °रिहिद (श्री) वि [°हित] १ व्यवहित, अंतराल-युक्त (आचा) । २ युक्त, अदृश्य (सम ३६, उप १६६ टी; अमि १२०) । °वेइ पु [°वेदि] गंगा और यमुना के बीच का देश (कुमा) । °अत वि [°कान्त] सुन्दर, मनोहर (से १, ५६) । अतअ वि [आयात्] आता हुआ (से ६, ४६) । अतअ-वि [अन्तग] पार-नामी, पार-प्राप्त (से ६, १८) । अंतअ वि [अन्तद्] १ अविनाशी, शाश्वत । २ जिसकी सीमा न हो वह (से ६, १८) । अतअ } वि [अन्तक] १ मनोहर, सुन्दर  
अतग } (से ६, १८) । २ अन्तर्गत, समाविष्ट (सूत्र १, १५) । ३ पर्यन्त, प्रान्त भाग, 'जे एवं परिभासति अन्तए ते समाहिए' (सूत्र १, ३) । ४ यम, मृत्यु (से ६, १८, उप ६६६ टी), 'समागमं कखति अन्तगम्म' (सूत्र १, ७) । अतग वि [अन्तग] १ पार-नामी । २ दुस्तयज, जो कठिनाई से छोड़ा जा सके; 'चिच्चाए अन्तग सोय निरवेक्खो परिक्खए' (सूत्र १, ६) । अंतगय देखो अत-गय (व १) । °अतण न [यन्तण] वन्धन, नियन्त्रण (प्रयौ २४) । अतद्धाण वि [अन्तर्धान] तिरोवान-कर्त्ता (पिड ५००) ।

अंतवभाव देखो अत-भाव (अज्ज १४२) । अंतर न [अन्तर] १ मध्य, भीतर, 'गामंतरे पविट्ठो सो' (उप ६ टी) । २ मेद, विगेष, फरक (प्रासू १६८) । ३ अन्तर, समय (गाया १, २) । ४ व्यवधान (ज १) । ५ अक्काश, अन्तराल (भग ७, ८) । ६ विवर, द्विद्व (पात्र) । ७ रजोहरण । ८ पात्र । ९ पुं आचार, कल्प । १० सूत के कपडे पहनने का आचार, सौत्र कल्प (कप्प) । °कप्प पु [°कल्प] जैन साधु का एक आत्मिक प्रशस्त आचरण (पत्र) °कट्ट पु [°कन्द] कन्द की एक जाति, वनस्पति-विशेष (परण १) । °करण न [°करण] आत्मा का शुभ अव्यवसाय-विशेष (पत्र) । °गिह न [°गृह] १ घर का भीतरी भाग । २ दो घरों के बीच का अंतर (वृह ३) । °णई स्त्री [°नदी] छोटी नदी (ठा ६) । °टीव पु [°द्वीप] १ द्वीप-विशेष (जी २३) । २ लवण समुद्र के बीच का द्वीप (परण १) । °सत्तु पु [°शत्रु] भीतरी शत्रु, काम-क्रोधादि (सुपा ८५) । अतर सक [अन्तरय्] व्यवधान करना, बीच में डालना । अतरेहि, अतरेमि (विक्र १३६) । अतर वि [आन्तर] १ अग्र्यन्तर, भीतरी; 'सयलमुराणपि अतरो अप्पाणो' (अञ्चु २०) । २ मानसिक (उवर ७१) । अंतरंग वि [अन्तरङ्ग] भीतरी (विसे २०२७) । अतरजी स्त्री [आन्तरजी] नगरी-विशेष (विसे २३०३) । अतरपल्ली स्त्री [अन्तरपल्ली] मूल स्थान से ढाई गन्धूत की दूरी पर स्थित गांव (पत्र ७०) । अतरमुहुत्त देखो अत-मुहुत्त (पत्र २, १३) । अतरा अ [अन्तरा] १ मध्य में, बीच में (उप ६५४) । २ पहले, पूर्व में (कप्प) । अतराइय न [आन्तराधिक] १ कर्म-विशेष, जो दान आदि करने में विघ्न करता है (ठा २) । २ विघ्न, रूकावट (परह २, १) । अतराईय न [अन्तरायीय] ऊपर देखो (सुपा ६०१) ।

अतरापह पुं [अन्तरापथ] रास्ता का बीचला भाग (सुव १, १५) । अंतराय पुंन [अन्तराय] देखो अंतराह्य (ठा २, ४, न २०३) । अतराल पु [अन्तराल] अंतर, बीच का भाग (अमि ८२) । अतरावण पुन [अन्तरावण] दूकान, हाट (चार ३) । अतरावास पु [अन्तरवर्ष, अन्तरावास] वर्षा-काल (कप्प) । अतरिक्ख पुंन [अन्तरिक्ख] अन्तराल, आकाश (भग १७, १०, स्वप्न ७०) । °जाय वि [°जात] जमीन के ऊपर रही हुई प्रासाद, मंच आदि वस्तु (आचा २, ५) । °पासणाह पु [°पार्श्वनाथ] खानदेश में अकोला के पास का एक जैन-तीर्थ और वहाँ की भगवान् श्रोपार्वनाथ की मूर्ति (ती) । अतरिक्ख वि [आन्तरिक्ख] १ आकाश-सवधी, आकाश का (जी ५) । २ गहो के परस्पर युद्ध और मेद का फल बतलानेवाला शस्त्र (सम ४६) । अतरिज्ज न [अन्तरीय] १ वन्ध, कपडा । २ शय्या का नीचला बस्त्र, 'अतरिज्ज एणमणियसण, अहवा अतरिज्ज नाम सेज्जाए हेट्ठिल्लपोत्त' (निक्ख १५) । अतरिज्ज न [दे] करवनी, कटीसूत्र (दे १, ३५) । अतरिज्जिया स्त्री [अन्तरीया] जैनीय वेशवाटिक गच्छ की एक शाखा (कप्प) । अतरित } वि [अन्तरित] व्यवहित, अतर-  
अतरिय } वाला (सुर ३, १४३, से १, २७) । अतरिया स्त्री [दे] समाप्ति, अत (ज २) । अतरिया स्त्री [अन्तरिका] छोटा अन्तर, थोड़ा व्यवधान (राय) । अतरीय न [अन्तरीय] द्वीप, 'सरवरगिहत-राले जिणभवण आसि अतरीय व' (वर्मवि १४३) । अतरेण अ [अन्तरेण] बिना, मियाय (उत्त १) ।

अतरेण अ [अन्तरेण] वीच में, मव्य मे (स ७६७) ।

अनलिक्रय देखो अनरिक्ख (गाया १, १, चाह ७) ।

अति देखो पति (ने ६, ६६) ।

अतिम वि [अन्तिम] चरम, जेप, अन्त्य (ठा १) ।

अतिय न [अन्तिक] १ समीप, निकट (उत्त १) । २ अन्नमान, अन्न; अन्न भिक्षु गिनाएवा आहारन्नेव अतिया (आचा १, ८) । अन्तिम, चरम (सूत्र २, २) ।

अतीहरी स्त्री [दे] दूती (दे १, ३५) ।

अतेआरि वि [अन्तआरिन्] वीच मे जानेवाला, वीचक (हे १, ६०) ।

अतेअर न [अन्त पुर] १ राजन्वियो का निवासगृह । २ रानी, 'अणकुमारो वि तेसि वदण्य सतिउरो गमो तमुआण' (महा) ।

अतेअरिगा } स्त्री [आन्त पुरिकी, ०री]  
अतेअरिया } अन्त पुर मे रहनेवाली स्त्री,  
अतेअरी } राजी (उप ६ टी, मुपा २२८, २८६) । २ रोगी का नाममात्र लेने से उसको नीरोग बनानेवाली एक विद्या (वन ५) ।

अतेहरी स्त्री [दे] १ मव्य, वीच । २ उदर, पेट । ३ वल्लोच, तन्ग (दे १, ५५) ।

अतेचामि वि [अन्तेवासिन्] शिष्य (कप्प) ।  
अतेचुर देखा अतेअर (प्रति ५७) ।

अंनो अ [अन्तर] वीच, भीतर, 'गामंतो संयत्ता' (उप ६ टी, सुर ३, ७५) । ०खरिया स्त्री [अरिका] नगर मे रहनेवाली वेश्या (भा १५) । १गड्या स्त्री [गतिका] न्यागत के लिए सामने जाना, 'सव्वाए विनुईए अतोगइयाए तण्यम्भ' (सुर १५, १६१) । १गय वि [गत] मव्यवर्ती, ममाविट्ट (उप ६८६ टी) । १णिअसणी स्त्री [निवसनी] जैन साध्वियों को पहनने का एक वस्त्र (वृह ३) । १दहण न [दहन] हृदय-दाह (तदु) । १मव्माव-माणिण पुन [मध्यावमानिक] अभिनय का एक भेद (राय) । १मुहुत्त न [मुहूर्त्त] कम मुहूर्त्त, ५८ मिनिट से कम समय

(कप्प) । १वाहिणी स्त्री [वाहिनी] छुद्र नदी (ठा २, ३) । १वीसभ पु [विश्रम्भ] हादिक विश्वास (हे १ ६०) । १सह न [शल्य] १ भीतरी शल्य, घाव (ठा ४) । २ कपट, माया (श्रीप) । १साळा स्त्री [शाळा] घरका भीतरी भाग 'कोलालमड अंतोमालाहितो वहिया नीएई' (चवा, पि ३४३) । १हुत्त वि [सुर] भीतर, 'अतहत्त डम्मइ जायानुएणे घटे हलिअउत्तो' (गा ३७३) ।

अतोहुत्त वि [दे] अशोमुख, अँवा मुह वाला (दे १, २१) ।

अत्रही (अप) स्त्री [अन्त्र] आत, आतो (हे ४, ४४५) ।

अंअ पु [चन्द्र] १ चन्द्रमा, चाद 'पमुव-इणो रोनाएणपडिमानंअंतगोरिसुहअद' (गा १) । २ कपूर (मे ६, ४७) । १राअ पु (राग) चन्द्रकान्त मणि (से ६, ४७) ।

अंदरा स्त्री [कन्दरा] गुफा (से ६, ४७) ।

अंदल पु [कन्दल] वृक्ष-विशेष (से ७, ४७) ।

अदावेदि (श्री) देखो अतावेइ (हे ४, २८६) ।

अंदु } स्त्री [अन्दु] शृङ्खला, जजीर  
अदुया } (श्रीप, स ५३०) ।

अदेअर (श्री) देखो अतेअर (हे ४, २६१) ।

अदोल अक [अन्दोल] १ हिचकना, झूना । २ कपना, हिलना । ३ सदिग्ध होना, 'अदोलइ दोलामु व माणो गल्लोवि त्रिलयाण' (स ५२१) । वृक्ष अदोल्ल, अदोल्लित, अदोल्लमाण (मे ८, ५१, ५१, २५, सुर ३, ११६) ।

अंदोल अक [अन्दोल्य] कपाना, हिलाना । वृक्ष अदोल्ल (सुर ३, ६७) ।

अदोल्लग पुं [आन्दोलक] हिडोला (राय) ।

अदोल्लण न [आन्दोलन] १ हिचकना, झूना (सुर ४, २२५) । २ हिडोला । ३ मार्ग-विशेष (सूत्र १, ११) ।

अदोल्लय देखो अंदोल्ल (सुर ३, १७५) ।

अदोल्लि वि [आन्दोलिन्] हिलानेवाला, कपानेवाला (गा २३७) ।

अदोल्लिर वि [आन्दोलिर्] झुननेवाला (मुपा ७८) ।

अदोल्लण देखो अदोल्लण ।

अंध वि [अन्ध] १ अन्धा, नेत्रहीन (विपा १, १) । २ अज्ञान, ज्ञानरहित 'एए एं अवा मूठा तमप्पइट्टा' (भग ७, ७) । १कंटइज्ज न [कण्टकीय] अंध पुरुष के कटक पर चलने के माफिक अविचारित गमन करना (आचा) । १तम न [तमस] निविड अन्धकार (सूत्र १, ५) । १पुर न [पुर] नगर-विशेष (वृह ४) ।

अध पु [अन्ध] पाचवाँ नरक का चौथा नरकेन्द्रक, एक नरक-न्यान (देवेन्द्र ११) ।

अध पु व [अन्ध्र] इस नाम का एक देश (पठम ६८, ६७) ।

अंध वि [अन्ध्र] आन्ध्र देश का रहनेवाला (पएह १, १) ।

अधधु पुं [दे] कूप, कुँआ (दे १, १८) ।

अधकार देखो अंधयार (चद ४) ।

अधग पु [दे] वृक्ष, पेठ (भग १८, ४) ।

वण्ह पु [वहि] मूल अग्नि (भग १८, ४) ।

अधग देखो अध (भग १८, ४) ।

वण्ह पु [वहि] सूक्ष्म अग्नि (भग १८, ४) ।

वण्ह पु [वण्हिण] यदुव्य का एक राजा, जो समुद्रविजयादि के पिता था (अत २) ।

अधय } पु [अन्धक] १ अवा, नेत्र-  
अधयग } हीन (पएह १, २) । २ वानर-  
वश का एक राज कुनार (पठम ६, १८६) ।

अधयार पुन [अन्धकार] अवेरा, अधकार (कप्प, स ४२६) । १पक्ख पु [पक्ष] कृष्णपक्ष (मुज १३) ।

अधयारण न [अन्धकार] अवेरा (भवि) ।

अधयारिय वि [अन्धकारित] अक्कार-  
वाना (से १, १५, ५३) ।

अंधरअ } वि [अन्ध] अंधा, नेत्रहीन  
अधल } (गा ७०४, हे २, १७३) ।

अंधलरिही स्त्री [अन्धयित्री] अंध बनाने-  
वाली एक विद्या (मुपा ४२८) ।

अंधार पुं [अन्धकार] अवेरा (श्री १११, २७०) ।

अंधार सक [अन्धकार्य्] अन्धकार-युक्त करना। कर्म 'मिहच्छन्ने सूरे अवारिब्ध न कि भुवण' (कुप्र ३८७)।

अधारिय वि [अन्धकारित] अंधकार वाला (सुपा ५४, सुर ३, २३०)।

अघाव सक [अन्धय्] अघा करना। अघा-वेइ (विक्र ८४)।

अधिअ वि [अन्धित] अन्ध वना हुआ (सम्मत १२१)।

अधिआ स्त्री [अन्धिका] अन्ध-विशेष (दे २, १)।

अंधिआ स्त्री [आन्धिका] चतुरिन्द्रिय जंतु की एक जाति (उत्त ३६, १४७)।

अधिह्या वि [अन्ध] अन्धा, जन्मान्व (पएह २, ५)।

अधिह्य देवो अधिह्या, (पिड ५७२)।

अथीकिद् (शौ) वि [अन्धीकृत] अन्ध किया हुआ (स्वप्न ४६)।

अधु पु [अन्धु] कूप, कुँआ (प्राभा, दे १, १८)। अवेह्या देवो अधिल्लग (पिएड)।

अंध पुं [अन्ध] कपन (मे ५, ३२)।

अन्ध पु [अन्ध] एक जात के परमात्मिक देव, जो नरक के जोवो को दुख देते हैं (सम २८)।

अन्ध पु [आन्ध] १ ग्राम का पेड। २ न ग्राम, आन्ध-फल (दे १, ८४)। ३ गृह्या स्त्री [दे] ग्राम की आठो, गुठनी (निचू १५)।

अन्धियग न [दे] १ आम का रूखा (निचू १५)। २ ग्राम की छाल (आचा २, ७, २)।

अन्धगल न [दे] ग्राम का टुकड़ा (निचू १५)।

अन्धाला न [दे] ग्राम का छोटा टुकड़ा (आचा २, ७, २)। ३ पेशिया स्त्री [पेशिका] ग्राम का लम्बा टुकड़ा (निचू १५)।

अन्धित न [दे] ग्राम का टुकड़ा (निचू १५)। ३ सालग न [दे] ग्राम की छाल (निचू १५)। ४ सालवण न [शालवन] चैत्य-विशेष (राय)।

अन्ध न [अन्ध] १ तरु, मट्टा (ज ३)। २ खट्टा रम। ३ खट्टी चीज (विसे)। ४ वि निष्ठुर वचन बोलनेवाला (वृह १)।

अन्ध वि [आन्ध] १ खट्टी वस्तु। २ मट्टे से सज्जत चीज (ज ३)।

अन्ध वि [ताम्न] लाल, रक्तवर्णवाला (मे ३, ३४)।

अन्नग देखो अन्न = आन्न (अणु) °द्विधा स्त्री [°स्थि] ग्राम की गुठली (अणु)।

अन्नदृ पु [अन्धदृ] १ देश-विशेष (पउम ६८, ६५)। २ जिसका पिता ब्राह्मण और माता वैश्य हो वह (सूत्र १, ६)।

अन्नदृ पु [अन्धदृ] १ एक परिव्राजक, जो महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जायगा (श्रीप)। २ भगवान् महावीर का एक श्रावक, जो आगामी चौबीसी में २२ बाँ तीर्थकर होगा (ठा ६)।

अन्नदृ वि [दे] कठिन (दे १, १६)।

अन्नधाई स्त्री [अन्धावात्रा] धाई माता (सुपा २६८)।

अन्धमसी स्त्री [दे] कठिन और वासी कनिक (दे १, ३७)।

अन्धय देखो अन्ध (सुपा ३३४)।

अन्ध पुन [अन्ध] एक देव-विमान (देवेन्द्र १४४)।

अन्ध न [अन्ध] १ आकाश (पात्र, भग २, २)। २ वस्त्र, कपड़ा (पात्र; निचू १)।

अन्धिल्य पु [अन्धिल्य] पर्वत-विशेष (श्राव)।

अन्धय न [अन्धय] स्वच्छ वस्त्र (कप)।

अन्धरस पुन [अन्धरस] आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र ७७५)।

अन्धरिस पुन [अन्धरीप] १ मट्टी, भाड (भग ३, ६)। २ कोष्ठक (जीव)। ३ पु नारक-जीवो को दुख देनेवाले एक प्रकार के परमात्मिक देव (पव १८०)।

अन्धरिसि पु [अन्धरिसि] १ ऊपर का तीसरा अर्थ देखो (सम २८)। २ उज्जयिनी नगरी का निवासी एक ब्राह्मण (श्राव)।

अन्धरीस देवो अन्धरिस।

अन्धरीसि देवो अन्धरिसि।

अन्धसमिआ } देवो अन्धमसी।

अन्धहुडी स्त्री [अन्धहुण्डी] एक देवी (महानि २)।

अन्धा स्त्री [अन्धा] १ माता, मा (स्वप्न २२४)। २ भगवान् नेमिनाथ की शासनदेवी (सति १०)। ३ वल्लो-विशेष (पएण १)।

अन्धाड सक [खरण्ट्] खरडना, लेप करना; 'चमदेति खरण्टेति अन्धाडेति ति वुत्त भवति' (निचू ४)।

अन्धाड सक [तिरस् + कृ] उपालभ देना, तिरस्कार करना, 'तमो हन्कारिय अन्धाडिआ मणिआ य' (महा)।

अन्धाडग } पु [आन्धाडक] १ आमला का अन्धाडय } (पएण १, पउम ४२, ६)। २ न आमला का फल (अनु ६)।

अन्धाडिय वि [तिरस्कृत] १ तिरस्कृत (महा)। २ उपालब्ध (स ५१२)।

अन्धिआ स्त्री [अन्धिका] १ भगवान् नेमिनाथ की शासनदेवी (ती १०)। २ पाचवें वासुदेव की माता (पउम २०, १८४)। ३ समय पुं [समय] गिरनार पर्वत पर का एक तीर्थ स्थान (ती ४)।

अन्धिर न [आन्ध] ग्राम का फल (दे १, १५)।

अन्धिल पु [आन्धिल] १ खट्टा रम (सम ४१)। २ वि. खटाई वाली चीज, खट्टी वस्तु (श्रोध ३४०)। ३ नामकर्म-विशेष (कम्म १, ४१)।

अन्धिलिया स्त्री [अन्धिका] १ इमली का पेड (उप १०३१ टी)। २ इमली का फल (श्रा २०)।

अन्धु न [अन्धु] पानी, जल (पात्र)। ३ अ, अन्ध न [अन्ध] कमल, पद्म (अनु ५५, कुमा)।

अन्धाह पु [अन्धाह] समुद्र (वव ६)। ३ अन्ध न [अन्ध] कमल (पात्र)। ४ अन्ध पु [अन्ध] मेघ, वारिस (गडड)। ५ अन्धाह पु [अन्धाह] मेघ, वारिस (गडड)।

अन्धुपिसाअ पु [अन्धु] राहु (गा ८०४)।

अन्धुसु पु [अन्धु] श्रापद जन्तु विशेष, हिंसक पशु-विशेष, शरम (दे १, ११)।

अन्धेद्विआ } स्त्री [दे] एक प्रकार का जूआ, अन्धेद्वी } मुष्टि-घृत (दे १, ७)।

अन्धेसि पु [अन्धेसि] द्वार-फलक, दरवाजे का तम्ना (दे १, ८)।

अन्धोच्छी स्त्री [अन्धो] फूलो को बिननेवाली स्त्री (दे १, ६, नाट)।

अन्ध पु [अन्ध] पानी, जल (श्रा १२)।

अन्धु (अणु) पु [अन्धु] पत्थर, पापाण (पड)।

अन्धो पुं [अन्ध] पानी, जल। ३ अन्ध न [अन्ध] कमल (दे ७, ३८)। ४ अन्धी स्त्री [अन्धिनी] कमलिनी, पद्मिनी (मै ६१)। ५ अन्धि पु [अन्धि] समुद्र (श्रा १२)।



°रुह न [°रुह] कमल, पद्म, 'कुम्भनोन्हर-  
जन्निहिरौ, दिव्यविमाराण्यगणसिंहिरौ'  
(उ ६ टी) ।

अभोहि पुं [अम्भोधि] समुद्र (कुप्र २७?) ।

अस पुं [अस] १ नाग, अश्वयव, खड, दुकडा  
(पाप्र) । २ भेद, विकल्प (विशे) । ३ पर्याय,  
वर्म, गुण (विन) ।

अस पु [अस] विद्यमान कर्म, सना-स्थित  
कर्म, 'अस इति सतकर्मं नदई' (कम्म ६, ६) ।

°हर वि [°हर] भागीदार (उत्त १३, २०) ।

अंस } पु [अस] कान्य, कवा (शाया  
अमलग) १, १८, तटु) ।

अंसि देवो अस = असु ।

अंसि न्त्री [अंशि] १ कोण, कोना (उप पु  
६८) । २ वार, नोत्र (ठा =) ।

अंसिया न्त्री [अंशिका] नाग, हिन्ना (वृह  
३) ।

अमिया न्त्री [अंशिका] १ वानौर का रोग  
(भा १६, ३) । २ नासिका का एक रोग  
(निचू ३) । ३ फुन्सी, फोडा (निचू ३) ।

असु पु [अशु] किरण (लहृय ६) । °मालि  
पुं [°मालिन] सूर्य, सूरज (रयण १) ।

असु देवो असुय = अशुक (पच ३, ४०) ।

अंसु पु [अशु] किरण । °मत, °वत वि  
[°मन्] १ किरणवाना । २ पु सूर्य  
(प्राह २५) ।

असु न [अशु] ग्राम, नेत्र-जल । °मत, °वत  
वि [°मन्] अशुवाना (प्राह ३५) ।

अंसु } न [अशु] ग्राम, नेत्र-जल (हे १,  
असुय } २६, कुमा) ।

असुय न [अशुक] १ वन्द्य, कपडा (ने ६,  
=०) । २ वारोक वन्द्य (वृह २) । ३ पोशाक,  
वेश (कप्य) ।

अंसोत्य देवो अरसोत्य (पि ७४, १५२,  
३०६) ।

अह पुन [अहसु] मल, 'मद्य व वाहियो  
नो निरहसा तेण जन्पवाहेण' (वर्मवि  
१८६) ।

अहि पु [अहि] पाद, पांव (कप्य) ।

अरइ वि [अकति] असह्यात, अनन्त (ठा  
३) ।

अरंड देवो अयड (गा ६६५) ।

अकडतलिम वि [दे] १ स्नेह रहित । जिसने  
शादी न की हो वह (दे १, ६०) ।

अकपण वि [अकम्पन] १ कप रहित । २  
पु रावण का एक पुत्र (सि १४, ७०) ।

अकपिय वि [अकम्पित] १ कम्परहित  
२ पु भगवान् महावीर का आठवाँ गणवर  
(उम १६) ।

अकज देवो अकय = अकृत्य (उव) ।

अकणग } वि [अकर्ण] १ कर्ण रहित ।

अकज } २-३ पु च्चानामच्यात एक अन्-  
द्रापि प्रौर उसमे रहनेवाला (ठा ४, ०) ।

अकप्य पु [अकल्प] अयोग्य आचार,  
शास्त्रोक्त विधि-भर्यादा से बाहर का आचरण  
(कण) ।

अकप्य वि [अकल्प्य] अनाचरणीय, शास्त्र-  
निषिद्ध आहार-वस्त्र आदि अश्राव्य वस्तु  
(वव १) ।

अकपिय पु [अकल्पिक] जिसको शास्त्र  
का पूरा-पूरा ज्ञान न हो ऐसा जैन नाघु  
(वव १) ।

अकपिय देवो अकप्य = अकल्प्य (दस ५) ।

अकम वि [अकम] १ क्रम रहित । २  
क्रि वि एक साथ (कुमा) ।

अकम्म } न [अकर्मन्, °क] १ कर्म  
अकम्मग } का अभाव (वृह १) । २ पुं  
मुक्त, निद्र जीव (आत्ता) । ३ कृपि आदि  
कर्म रहित (दिग, भूमि वगैरह) (जी २४) ।

°भूमग, °भूमय वि [°भूमक] अकर्म-भूमि  
में उत्पन्न होने वाला (जीव १) । °भूमि,  
°भूमी न्त्री [°भूमि, भूमी] जिन भूमि में  
कल्प वृक्षों से ही आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति  
होने से कृपि वगैरह कर्म करने की आवश्यकता  
नहीं है वह, भोग-भूमि (ठा ३, ४) ।

°भूमिय वि [°भूमिज] अकर्म-भूमि में  
उत्पन्न (ठा ३, १) ।

अकन्हा अ [अकन्मात्] अचानक, निष्का-  
रण (मुवा ५६६) ।

अक्य वि [अकृत्य] नहीं किया हुआ (कुमा) ।

°सुह वि [°सुरय] अपजित, अग्नित (वृह  
३) । °त्य वि [°त्य] असफल (नाट) ।

अक्य वि [अकृत्य] १-२ करने के अयोग्य  
या अशक्य । ३ न अनुचित वान । °कारि

वि [°कारिन्] अकृत्य को करनेवाला  
(पउम ८०, ७१) ।

अक्यय (मा) ऊपर देवो (नाट) ।

अकरग न [अकरण] १ नहीं अग्न्या (कस)  
२ मंथुन, 'जइ सेवंति अकरणं पंचएहवि  
वाहिरा हंति' (वव ३) ।

अकाडय वि [अकायिक] १ शारीरिक चेष्टा  
से रहित । २ पुं मुक्तात्मा (भग ८, २) ।

अकाम पु [अकाम] १ अनिच्छा (मृश  
०, ६) । २ वि इच्छारहित, निष्काम  
(मुवा २०६) । °णिज्जरा न्त्री [°निर्जरा]  
कर्म-नाश की अनिच्छा से बुभुसा आदि कष्टों  
को सहन करना (ठा ४, ४) ।

अकामग } [अकामक] ऊपर देवो ।  
अकामय } ३ अवाञ्छनीय, इच्छा करने  
के अयोग्य (परह १, १, राया १, १) ।

अकामिय वि [अकामिक] निराश (विपा  
१, १) ।

अकाय वि [अकाय] १ शरीररहित । २ पु  
मुक्तात्मा (ठा २, ३) ।

अकार पुं [अकार] 'अ' अक्षर, प्रथम स्वर  
वर्ण (विसे ४६५) ।

अकारग पु [अकारक] १ अक्षि, भोजन की  
अनिच्छा रूप रोग (राया १, १३) । २ वि  
अकर्ता (नृश १, १) । °वाइ वि [°वादिन्]  
आत्मा को निष्क्रिय माननेवाला (नृश १,  
१) ।

अकासि अ [दे] निषेव-सूचक अव्यय, अलम्-  
'अकासि नजाए' (दे १, =) ।

अकिंचण वि [अकिञ्चन] १ नाघु, मुनि,  
भिक्षुक (परह २, ५) । २ गरीब, निर्बन्ध,  
दरिद्र (पाप्र) ।

अकिट्ट वि [अकृष्ट] नहीं जोती हुई जमीन  
'अकिट्टजाय' (पउम ३३, १४) ।

अकिट्ट वि [अक्तिष्ट] १ कनेसरहित, वावा-  
रहित,

'पिच्छामि तुज्जक क्त,

सगामे कइएसु दिवहेमु ।

मह नाहेण विणिहयं,

रामेण अकिट्टवम्मेण' (पउम

५३, ५२) ।

अकिरिय वि [अक्रिय] १ आलसी, निरुद्यम् ।  
२ अशुभ व्यापार से रहित (ठा ७) । ३  
परलोक-विषयक क्रिया को नहीं माननेवाला,  
नास्तिक (एदि) । ४ यि वि [°त्मन्] आत्मा  
को निष्क्रिय माननेवाला, माल्य (सूत्र १,  
१०) ।

अकिरिया स्त्री [अक्रिया] १ क्रिया का  
अभाव (भग २६, २) । २ दुष्ट क्रिया, खराब  
व्यापार (ठा ३, ३) । ३ नास्तिकता (ठा ८) ।  
°वाइ वि [°वादिन्] परलोक-विषयक क्रिया  
को नहीं माननेवाला, नास्तिक (ठा ८, ४) ।  
अकीरिय देखो अकिरिय, 'जे केइ लोगम्मि  
अकीरियाया, अन्नेण पुट्टा धुममादिमति' (सूत्र  
१, १०) ।

अकुइया स्त्री [अकुचिका] देखो अकुय ।  
अकुओभय वि [अकुतोभय] जिसको किसी  
तरफ से भय न हो वह, निर्भय (आचा) ।  
अकुठ वि [अकुण्ठ] अपने कार्य में निपुण  
(गरुड) ।  
अकुय वि [अकुच] निघल, स्वर (निचू १) ।  
स्त्री अकुइया (कप्प) ।

अकोपप वि [अकोप्य] रम्य, सुन्दर (पएह  
१, ४) ।

अकोपप पु [दे] अपराध, गुनाह (पइ) ।  
अकोस देखो अक्कोस = अक्कोश ।

अकोसायत वि [अकोशायमान] विकसता  
हुआ, 'रविकिरणतरुणवोहियअकोमायंतपठम-  
गमीरवियडरणे' (श्रीप) ।

अक्ष पु [अके] १ सूर्य, सूरज (सुर १०,  
२२३) । २ आक का पेट (प्रामू १६८) । ३  
मुवण, सोना, 'जेण अन्नुअसरिसो विहिओ  
रवणकसजोगो' (ग्यण ५४) । रावण का  
एक सुभट (पउम ५६, २) । °तूल न [°तूल]  
आक की रूई (पएण १) । °तेअ पु [°तेजस्]  
विद्यावर वश का एक राजा (पउम ५, ४६) ।  
°वोदीया स्त्री [°वोन्दिक्का] बली-विशेष  
(पएण १) ।

अक्ष पु [दे] दूत, सदेश-दाहक (दे १, ६) ।  
°अक्ष देखो चक्र (गा ५३०, से १, ५) ।  
अक्षअ वि [अक्षत] नहीं किया गया । °पुव्व  
वि [°पूर्व] जो पहले कमी न किया गया हो  
(से १२, ५०) ।

अक्कंड देखो अक्कड (आउ ५३) ।

अक्कत वि [आकान्त] १ बलवान् के द्वारा  
दवाया हुआ (गाया १, ८) । २ घेग हुआ,  
ग्रस्त (आचा) । ३ परास्त, अभिभूत (सूत्र १,  
१, ४) । ४ एक जाति का निर्जीव वायु (ठा  
५, ३) । ५ न आक्रमण, उल्लघन (भग १,  
३) । °दुक्ख वि [°दुक्ख] दुःख में दवा  
हुआ (सूत्र-१, १, ४) ।

अक्कत वि [दे] बढा हुआ, प्रवृद्ध (दे १, ६) ।  
अक्कत वि [अकान्त] अनिष्ट, अनभिलषित,  
अनभिमत (सूत्र १, १, ४, ६) ।

अक्कद अक [आ + अक्कन्द्] रोना, चिल्लाना  
(प्रामा) । वक्क अक्कदत (मुपा ५७४) ।

अक्कद (अप) देखो अक्कम = आ + अक्कम् ।  
अक्कदइ, सक्र अक्कदिऊण (सएण) ।

अक्कद पु [आकन्द्] रोदन, विलाप, चिल्ला-  
कर रोना (सुर २, ११४) ।

अक्कंद वि [दे] आण करनेवाला, रक्षक (दे  
१, १५) ।

अक्कदायणय वि [आकन्द्क] लानेवाला  
(कुमा) ।

अक्कटिय न [आकन्दि] विलाप, रोदन (से  
४, ६४, पउम ११०, ५) ।

अक्कम सक [आ + अक्कम्] १ आक्रमण करना,  
दवाना । २ परास्त करना । वक्क अक्कमत  
(पि ४८१) । सक्र अक्कमित्ता (पएह १, १) ।

अक्कम पु [आकम] १ दवाना, चढाई करना ।  
२ पराभव (आव) ।

अक्कमण न [आक्रमण] १—२ ऊपर देखो  
(से १४, ६६) । ३ पराक्रम (विसे १०४६) ।  
४ वि आक्रमण करनेवाला (से ६, १) ।

अक्कमिअ देखो अक्कत = आकान्त (काप्र १७२,  
मुपा १२७) ।

अक्कसाळा स्त्री [दे] १ बलात्कार, जवरदस्ती ।  
२ जन्म-स्त्री स्त्री (दे १, ५८) ।

अक्का स्त्री [दे] वहिन (दे १, ६) ।

अक्का स्त्री [अक्का] कुटनी, दूती (कुप्र १०) ।

अक्कासी स्त्री [अक्कासी] व्यन्तर-जातीय एक  
देवी (तो ६) ।

अक्किज वि [अक्केय] खरोदने के प्रयोग्य (ठा  
६) ।

अक्किट्ट वि [अक्किट्ट] १ क्लेश-वर्जित (जीव  
३) । २ बाधरहित (भग ३, २) ।

अक्किट्ट वि [अक्किट्ट] अविलिखित (भग ३, २) ।  
अक्किय वि [अक्किय] क्रियारहित (विसे  
२२०६) ।

अक्कुट्ट वि [दे] अघ्यामित, अघिष्ठित (दे १,  
११) ।

अक्कुस सक [गम्] जाना । अक्कुसइ (हे  
४, १६२) ।

अक्कुहय वि [अक्कुहक] निष्कपट, मायाग्रहित  
(दम ६, २) ।

अक्कूर पु [अक्कूर] श्रीकृष्ण के चाचा का  
नाम (रुविम ४६) ।

अक्कूर वि [अक्कूर] क्रूरतारहित, दयालु (पव  
२३६) ।

अक्केज्ज देखो अक्किज्ज ।

अक्केहय वि [एक्काकिन्] अकेला, एकाकी  
(नाट) ।

अक्कोड पु [दे] छाग, बकरा (दे १, १२) ।

अक्कोडण न [आक्कोडन] इकट्ठा करना, संग्रह  
करना (विसे) ।

अक्कोस न [अक्कोश] जिस ग्राम के अति नज-  
दीक में शटवी, श्वापद या पर्वतीय नदी आदि  
का उपद्रव हो वह ।

'लेत्त चलमचल वा, इंदमएिद सकोसमक्कोम ।  
वाघातम्मि अक्कोस, अइवीजले सावए तेणे'  
(वृह ३) ।

अक्कोस मक [आ + अक्को] आक्रोश करना ।  
वक्क अक्कोसित (सुर १२, ४०) ।

अक्कोस पु [आक्कोश] कटु वचन, शाप,  
भर्त्सना (सम ४०) ।

अक्कोसग वि [आक्कोशक] आक्रोश करनेवाला  
(उत्त २) ।

अक्कोसणा स्त्री [आक्कोशना] अभिशाप, निर्भ-  
र्त्सना (गाया १, १६) ।

अक्कोसिअ वि [आक्कोशित] कटु वचनो से  
जिमकी भर्त्सना की गई हो वह (सुर ६,  
२३४) ।

अक्कोह वि [अक्कोध] १ अल्प-क्रोधी (ज २) ।  
२ क्रोधरहित (उत्त २) ।

अक्ख पु [अक्ख] १ जीव, आत्मा (ठा १) ।  
२ रावण का एक पुत्र (से १४, ६५) । ३

चन्दनक, समुद्र में होनेवाला एक द्वीन्द्रिय जन्तु, जिसके निर्जोव गरीर को जैन साधु को न्यापनाचार्य में रखते हैं (श्रा १)। ४ पहिया की घुरी, नील (श्राघ ५४६)। ५ चौसर का पाना (घण ३२)। ६ विभीतक, बहेडा का वृक्ष (से ६, ४४)। ७ चार हाथ या २६ अंगुली का एक मान (अणु-सम)। ८ द्वांस (अणु ३)। ९ न इन्द्रिय (विसे २१, घण ३२)। १० नून, दूआ (से ६, ४४)। °चम्म न [°चमेन] पत्ताल, मनक, 'अक्खवम्म उट्टगडदेवं' (गाया १, ६)। °पाडय न [°पादक] कील का टुकड़ा, 'राइणा हाहारव करेमाणेण पहसो सो नुणसो अक्खपाडणएति' (न २५५)। °माला स्त्री [°माला] जपमाला (पठम ६६, ३१)। °लया स्त्री [°लता] खाल की माला (दे)। °वन्न न [°पात्र] पूजा का पात्र, 'तो लोसो। गहियक्खवत्तहत्थो एड तिहे वड्डावणत्थ' (नुपा ५८५)। °वल्लय न [°वल्लय] खाल की माला (दे २, ८१)। °वाअ पु [°पाड] नैयायिक मत के प्रवर्तक गोतम ऋषि (विसे १५०८)। °वाडग पुं [°वाटक] अवाडा (जीव ३)। °सुत्तमाला स्त्री [°सूत्रमाला] जपमाला (अणु ३)।

अकर देखो अक्खा = आ + ख्या। अक्खइ (सण)।

अक्खइय वि [आख्यात] उक्त, कथित (सण)।

अक्खइहिणी देखो अक्खोहिणी (प्राक्क ३०)।

अक्खइ वि [अखण्ड] १ सपूर्ण। २ अखण्डित। ३ निरन्तर, अविच्छिन्न; 'अक्खइयपयाणेहि ख्खीसुटे गसो कुमरो' (नुपा २६६)।

अक्खइल पुं [आखण्डल] इन्द्र (पाप्र)।

अक्खइडिअ वि [अखण्डित] १ सपूर्ण, खण्ड रहित (से ३, १२)। २ अविच्छिन्न, निरन्तर (उर ८, १०)।

अक्खइ देवो अक्खा = आ + ख्या।

अक्खइ सक [आ + रकन्द] आक्रमण करना, 'अक्खइय मिया हियए, अणए महिलाअणं रमतन्न्' (ग ४४)।

अक्खणवेल न [दे] १ मैथुन, समोग।

० गाम, सध्या काल (दे १, ५६)।

अक्खणिआ स्त्री [दे] विपरोत मैथुन (पाप्र)।

अक्खम वि [अक्षम] १ अक्षम (नुपा-३७०)। २ अयुक्त, अनुचित (जा ३, ३)।

अक्खय वि [अजत] १ धावरहित, वण शून्य (सुर २, ३३)। ० अखण्डित, सपूर्ण (सुर ६, १११)। ३ पु. व अखण्ड चावन (सुपा ३२६)।

°यार वि [°आचार] निर्दोष आचरणवाला (वव ३)।

अक्खय वि [अक्षय] १ क्षय का अभाव (उवर ८३)। २ निरुक्त कर्मी नाग न हो वह (मम १)।

°निहि पुन [°निधि] एक प्रकार की तपश्चर्या (पव २७१)। °तइया स्त्री [°तृतीया] वैशाख शुक्ल तृतीया (आति)।

अक्खर पुन [अक्षर] १ अक्षर, वण (नुपा ६५६)। २ ज्ञान, चेतना; 'अक्खरइ अणुव-श्रोणेवि, अक्खर, सो य चेषणामावो' (विसे ४५५)। ३ वि अविनष्ट, निच (विसे ४५७)। °त्य पु [°अर्थ] शब्दार्थ (अभि १५१)। °पुट्टिया स्त्री [°पुट्टिका] निषि-विशेष (सम ३५)। समास पुं [°समान] १ अक्षरों का समूह। २ श्रुत-ज्ञान का एक भेद (कम्म १, ७)।

अक्खल पुं [दे] १ अक्षरोट वृक्ष। २ न अक्षरोट वृक्ष का फल (परण १६)।

अक्खलिय वि [दे] १ जिमका प्रतिशब्द दुग्रा हो वह, प्रतिव्वनिन (दे १, २७)। २ शकुल, व्याकुल (सुर ४, ८८)।

अक्खलिय वि [अखलिन] १ अवाधित, निरुपद्रव (कुमा)। २ जा मिरा न हो वह, अपतित (नाट)।

अक्खवाया स्त्री [दे] दिशा (दे १, ३५)।

अक्खा सक [आ + ख्या] कहना, बोलना। वक्क अक्खत (सण; धर्म ३)। कक्क अक्खिजंत (सुर ११, १६२)। क्क अक्खेअ, अक्खाइयव्य (विसे २६४७, गा २४२)। हेक्क अक्खालं (दस ८, सत ३ टी)।

अकरा स्त्री [आख्या] नाम (विसे १६११)।

अक्खाइ वि [आख्यायिन्] कहनेवाला, उद्देशक; 'अधम्मत्ताडं' (एया १, १८; विपा १, १)।

अक्खाय न [आख्यातिक] क्रियापद, क्रिया-वाचक शब्द (विसे)।

अक्खाइय वि [अक्षितिक] म्पायी, अक्षर, शाब्द; 'एवं ने अक्षियवयणदच्छा पग्गेनुप्पाय-एणमत्ता वेदति अक्खाइयवीएण अणएणं कम्मवधएणं' (परह १, २)।

अक्खाइया स्त्री [आख्यायिका] उन्मास, वार्ता, कहानी (कप्पु, मान ५०)।

अक्खाड वि [आख्यावृ] कहनेवाला (सुम १, १, ३, १२)।

अक्खाण पु [आख्याक] म्नेच्छों की एक जाति (सुम १, ५)।

अक्खाडग } पु [अक्षवाटक] १ इमा  
अक्खाडय } लेनने का अडा। ० अखाड, व्यापन-व्यान (उप पृ १३०)। ३ प्रेक्षकों की बैठने का आसन (ठा ४, २)।

अक्खाण न [आख्यान] १ कथन, निवेदन (कुमा)। ० वार्ता, उक्थया (पठम ४८, ७७)।

अक्खाणय न [आख्यानक] कहानी, वार्ता (उर ५६७ टी)।

अक्खाय वि [आख्यान] १ प्रतिपादित, कथित (नुपा ३६५)। २ न क्रियापद (परह २, २)।

अक्खाय न [अखात] हाथी को फकड़ने के लिए किया जाता गदा, खड़ा (पाप्र)।

अक्खाया स्त्री [आखाया] एक प्रकार की जैन दीना; 'अक्खायाए, नुदसणो चेट्टी सामिया पडिवाहिआं' (पच्)।

अक्खि वि [अक्षि] मात्र, नेत्र (हे १, ३३, ३५, स २, १०४, प्राप्र, स्वप्न ६१)।

अक्खिअ वि [आक्षिक] पात्रा से जुआ खेलनेवाला, जुआडी (दे ७, ८)।

अक्खिअ वि [आख्यात] प्रतिपादित, कथित (श्रा १४)।

अक्खितर न [अक्षयन्तर] आस का कोटर (विपा १, १)।

अक्खिज्जंत देवो अक्खा = आ + ख्या ।  
अक्खिज्जत्त वि [आक्षिप्त] सब तरह से प्रेरित  
(सिरि ३६६) ।

अक्खिज्जत्त वि [आक्षिप्त] १ व्याकुल । २  
जिस पर टीका की गई हो वह । ३ आकृष्ट,  
खीचा हुआ (सुर ३, ११५) । ४ सामर्थ्य से  
निया हुआ (से ४, ३१) ।

अक्खिज्जत्त न [अक्षेत्र] मर्यादित क्षेत्र के बाहर  
का प्रदेश (निचू १) ।

अक्खिज्जत्त सक [आ + क्षिप्] १ आक्षेप  
करना, टीका करना, दोषारोप करना । २  
रोकना । ३ गंवाना । ४ व्याकुल करना । ५  
फेंकना । ६ न्योकार करना, 'अक्खिज्जत्त पु रि-  
मगारं' (उवर ४६) । हेक्क अक्खिज्जत्त  
(निर १, १), 'तस्यो न जुत्तमिह कालम  
अक्खिज्जत्त' (म २०५, पि ५७७) । कर्म  
'अक्खिज्जत्त य मे वाणी' (स २३, प्रामा) ।

अक्खिज्जत्त सक [आ + क्षिप्] आक्षेप करना ।  
अक्खिज्जत्त (सिरि ८३१) ।

अक्खिज्जत्त न [आक्षेपण] व्याकुलता, घव-  
राहट (परह १, ३) ।

अक्खीण वि [अक्षीण] १ हास-शून्य, क्षय-  
ग्रहित, झूट (कम्प) । २ परिपूर्ण, सपूर्ण  
(कुमा) । 'महाणसिय वि [महानसिक]  
जिसको निम्नोक्त अक्षीण महानसी शक्ति प्राप्त  
हुई हो वह (परह २, १) 'महाणसी स्त्री  
[महानसा] वह अद्भुत आत्मिक शक्ति  
जिससे थोड़ा भी भिक्षात्र दूमरे सैकड़ों लोगों  
को यावत्-तृप्ति खिलाने पर भी तबतक कम न  
हो, जबतक भिक्षात्र लानेवाला न्वय उसे न  
छाड (पव २७०) । 'महालय वि [महालय]  
जिससे थोड़ी जगह में भी बहुत लोगों का  
समावेश हो सके ऐसी अद्भुत आत्मिक शक्ति  
से युक्त (गच्छ २) ।

अक्खुअ वि [अक्षत्] अक्षीण, श्रुति-शून्य,  
'अक्खुआयारत्तरिता' (पडि) ।

अक्खुडिअ वि [अखण्डित] सपूर्ण, अखण्ड,  
श्रुतिरहित, 'अक्खुडिअो पक्खुडिअो दिक्कतोवि  
सवालवुड्डजणो' (सुपा ११६) ।

अक्खुण्ण वि [अक्षुण्ण] जो टूटा हुआ न हो,  
अविच्छिन्न (वृह १) ।

अक्खुद वि [अक्षुद्र] १ गभीर, अतुच्छ  
(दव्व ५) । २ दयालु, कल्या (पचा २) । ३  
उदार (पचा ७) । ४ सूक्ष्म बुद्धिवाला  
(पमं २) ।

अक्खुद न [अक्षीद्रय] क्षुद्रता का अभाव  
(उप ६१५) ।

अक्खुपुरी स्त्री [अक्षपुरी] नगरी-विशेष  
(णया २) ।

अक्खुवभमाण वि [अक्षुभ्यमान] जो क्षीम  
को प्राप्त न होता हो (उप पृ ६२) ।

अक्खुभिय देवो अक्खुहिय (णदि ८६) ।  
अक्खुहिय वि [अक्षुभित] क्षोभरहित,  
अशुभ्य (सण) ।

अक्खुग सि [अक्षुग] अन्यून, परिपूर्ण,  
'भोगवत्याहरण सपायतेण मच्चमक्खुण'  
(उप ७२८ टी) ।

अक्खेअ देवो अक्खा = आ + ख्या ।

अक्खेव पु [अक्षेप] शीघ्रता, जल्दी (सुपा  
१२६) ।

अक्खेव पु [अक्षेप] १ आकर्षण, खींच कर  
लाना (परह १, ३) । २ सामर्थ्य, अर्थ की  
सर्गति के लिए अनुक्त अर्थ को बतलाना (उप  
१००२) । ३ आशंका, पूर्वपक्ष (भग २, १,  
विसे १४३६) । ४ उत्पत्ति, 'दइवेण फलक्खे  
अक्खेवसगो भवे पयटो' (उवर ४८) ।

अक्खेवग पु [अक्षेपक] १ खींचकर लाने-  
वाला, आकर्षक । २ समर्थक पद, अर्थसर्गति  
के लिए अनुक्त अर्थ को बतलानेवाला शब्द  
(उप ६६६) । ३ मान्निध्यकारक (उवर १८८) ।

अक्खेवणी स्त्री [अक्षेपणी] श्रोतार्थों के  
मन को आकर्षण करनेवाली कथा (श्रौप) ।

अक्खेवि वि [अक्षेपिन्] आकर्षण करने-  
वाला, खींचकर लानेवाला (परह १, ३) ।

अक्खोड सक [कृप्] म्यान से तलवार को  
खींचना, बाहर करना । अक्खोडड (हे ४, १८७) ।

अक्खोड सक [आ + स्फोटय्] थोड़ा या  
एक बार भटकना । अक्खोडिजा । वक्क  
अक्खोडत्त (दम ८) ।

अक्खोड पु [अक्षोट] १ अखरोट का पेड़ । २  
न अखरोट वृक्ष का फल (परह १७, मण) ।  
३ राजकुल की वी जाती सुवर्ण आदि की मेट  
(वव १ टी) ।

अक्खोड पु [आस्फोट] प्रतिलेखन की क्रिया-  
विशेष (पव २) ।

अक्खोडिय-वि [कृष्ट] खींचा हुआ, बाहर  
निकला हुआ (खड्ग) (कुमा) ।

अक्खोभ पु [अक्षोभ] १ क्षोभ का  
अभाव, घवराहट का अभाव  
अक्खोह (णया १, ६) । २ यदुवश के राजा  
अन्वकवृष्णि का एक पुत्र, जो भगवान् नेमि-  
नाथ के पाम दीक्षा लेकर शत्रु जय पर मोक्ष  
गया था (अत १, ७) । ३ न 'अन्तकृद्शा'  
सूत्र का एक अर्थयन (अत १, ७) । ४ त्रि  
क्षोभरहित, अचल, स्थिर (परह २, ५, कुमा) ।

अक्खोहणिज्ज वि [अक्षोभणोय] जो क्षुब्ध  
न किया जा सके (सुपा ११४) ।

अक्खोहिणी स्त्री [अक्षोहिणी] एक बड़ी  
सेना, जिसमें २१८७० हाथी, २१८७०  
रथ, ६५६१० घोड़े और १०६३५० पैदल  
होते हैं (पउम ५५, ७, ११) ।

अक्खोहणिज्ज वि [अक्षोभणोय] जो क्षुब्ध  
न किया जा सके (सुपा ११४) ।

अक्खोहिणी स्त्री [अक्षोहिणी] एक बड़ी  
सेना, जिसमें २१८७० हाथी, २१८७०  
रथ, ६५६१० घोड़े और १०६३५० पैदल  
होते हैं (पउम ५५, ७, ११) ।

अक्खड वि [अक्खण्ड] परिपूर्ण, खण्डरहित  
(श्रौप) ।

अक्खण्ड पु [अक्खण्डल] इन्द्र (पउम ४६,  
४४) ।

अक्खण्डिय वि [अक्खण्डित] नहीं टूटा हुआ,  
परिपूर्ण (पचा १८) ।

अक्खपण वि [दे] स्वच्छ, निर्मल, 'आयव-  
त्ताडं । धारितं, ठविति पुरो अक्खम्पण दण्ण  
केवि' (सुपा ७४) ।

अक्खज्ज वि [अक्खाद्य] जो खाने लायक न हो  
(णया १, १६) ।

अक्खत्त न [अक्षेत्र] क्षत्रिय-वर्म के विरुद्ध,  
जुलुम, 'यपइ विज्जावलिधो,  
अहह अक्खत्त करेइ कोइ इमो'  
(वम्म ८ टी) ।

अक्खम देवो अक्खम (कुमा) ।

अक्खरय पु [दे] मृत्यु-विशेष, एक प्रकार का  
दाम (पिड ३६७) ।

अक्खलिअ देवो अक्खलित्थं = अक्खलित  
(कुमा) ।

अक्खादिम-वि [अक्खाद्य] खाने के अयोग्य,  
अभक्ष्य, 'कुपहे धावति, अक्खादिम खादति'  
(कुमा) ।

असाय वि [असाय] नहीं बुदा हुआ । °तल  
न [°तल] छोटा तलाव (पात्र) ।  
अखिल वि [अखिल] १ सर्व, नकल, परिपूर्ण  
(कुमा) । २ ज्ञान आदि गुणों से पूर्ण 'अखिले  
अग्निदे द्राणएचारी' (सूत्र १, ७) ।  
अन्वृट् वि [दे] अन्वृट् (भवि) ।  
अखुडिअ वि [अखुडित] अन्वृट्, परिपूर्ण  
(कुमा) ।  
अखुडिअ देखो अखुडिअ (कुमा) ।  
अखेयण वि [अखेयण] अखुडित, अनिपुण  
(सूत्र १, १०) ।  
अखोड दखो अखोड + आखोड (पत्र २  
टी) ।  
अखोहा स्त्री [अखोभा] विद्या-विशेष (पत्रम  
७, १३५) ।  
अग पु [अग] १ वृज, पेड़ । २ पर्वत, पहाड़  
(सं ६, ४१), 'उच्चागयताणलट्टमठिय' (कण्) ।  
अगइ स्त्री [अगति] १ नीच गति, नरक या  
पशु-योनि में जन्म (ठा २, २) । २ निरुपाय  
(अष्ट २६) ।  
अगठिम न [अग्रन्थिम] १ कदली-फल, बेला  
(बृह १) । २ फल की फाँक, टुकड़ा (निचू  
१६) ।  
अगडिगेह वि [दे] योवनोन्मत्त, जवानी से  
उन्मत्त बना हुआ (दे १, ५०) ।  
अगडूचग वि [अगडूचक] नहीं छुजलाने-  
वाला (सूत्र २, २) ।  
अगत्य वि [अग्रन्थ] १ वनरहित । २ पुंस्त्री  
निर्ग्रन्थ, जैन साधु, 'पात्र कम्म अकुव्वमारो  
एन मह प्रगधे विआहिण' (आचा) ।  
अगधण पु [अगधन] इस नाम की सपों की  
एक जाति 'निच्छति वतय भोत्तु' कुले जाय ।  
अगधण' (दस २) ।  
अगड पुं [दे अघट] कूप, इनारा (नुर ११,  
८२, उव) । °तड वि [°तट] इनारा का  
किनारा (विसे) । °दत्त पु [°दत्त] इस नाम  
का एक राजकुमार (उत्त) । ददुदुर पु  
[°ददुर] कुंए का मेढक, अल्पज्ञ, वह मनुष्य  
जो अपना घर छोड़ बाहर न गया हो (साया  
१, ८) ।  
अगड पुं [अघट] कूप के पास पशुओं के जल  
पीने के लिए जो गर्त बनाया जाता है वह  
(उप २०५) ।

अगड वि [अकृत] नहीं किया हुआ (वय  
६) ।  
अगणि पु [अग्नि] आग (जी ६) । °काय पु  
[°काय] अग्नि के जीव (भग ७ १०) । °सुह  
पु [°सुह] देव, देवता (आच) ।  
अगणिअ वि [अगणित] अगणित, अप-  
मानित (गा ८८४, पत्रम ११५, १४) ।  
अगणित्त वि [अगण्यमान] जो गुणने में  
न आता हो, जिनकी आकृति न की जाती हो:  
'अगणित्तती नामे विजा' (प्राप् ६६) ।  
अगत्य ) पु [अगस्ति, °क] १ इन नाम  
अगत्यय ) का एक ऋषि । २ वृज-विशेष  
(दे ६, १३३; अतु) । ३ एक तारा अरुण  
महाग्रहों में ५४ वाँ महाग्रह (ठा २, ३) ।  
अगन्न वि [अगण्य] १ जिनकी गिनती न हो  
सके वह (उप ७२८ टी) ।  
अगन्न वि [अरुण्य] नहीं मुनने लायक, आश्चर्य  
(भवि) ।  
अगम पु [अगम] १ वृज, पट, 'दुमा य  
पायवा रक्का आ (१ अ) गमा विडिमा तरु'  
(दसनि १, ३५) । २ वि न्यावर, नहीं चलने  
वाला (महानि ४) ।  
अगम न [अगम] आकाश, गगन (भग २०  
२) ।  
अगमिय वि [अगमिक] वह शास्त्र, जिनमें  
एक नदृश पाठ न हो, या जिसमें गाया वगैरह  
पत्र हो, 'गाहाइ अगमिय सतु कानियनुय'  
(विसे ४४६) ।  
अगम्य वि [अगम्य] १ जाने के अयोग्य ।  
२ स्त्री भोगने के अयोग्य, भगिनी पर स्त्री  
आदि (भवि, नुर १०, ५०) । °गामि वि  
[°गामिन] पर स्त्री को भोगनेवाला, पार-  
दारिक (परह १, २) ।  
अगय न [अगड] श्रौपय, दवाई (नुपा  
४४७) ।  
अगय पु [दे] दैत्य, दानव (दे १, ६) ।  
अगर पुन [अगरु] सुगन्धि काष्ठ-विशेष (परह  
२, ५) ।  
अगरल वि [अगरल] सुविभक्त, स्पष्ट, 'अग-  
रलाए अमम्मणाए भासाए भासेइ'  
(श्रौप) ।  
अगरु देवो अगर (कुमा) ।

अगरुअ वि [अगरु] बड़ा नहीं, छोटा, लघु  
(गडट) ।  
अगरुल्लु वि [अगरुल्लु] जो भागें भी न  
हों और हलका भी न हो वह, जैसे आकाश,  
परमाणु वगैरह (विसे) । °णाम न [°नामन]  
कर्म-विशेष, जिनमें जीवों का शरीर न जानी  
न हलका होता है (कम्म १, ४७) ।  
अगल्लत्त पुं [अगडदत्त] एक रथिद-पुत्र  
(महा) ।  
अगल्लय देवो अगर (श्रौप) ।  
अगल्लण पु [दे] कापानिक, एक ऐसे नप्रदाय  
के लोग, जो माये की खोपड़ी में ही खाने-पीने  
का काम करते हैं (दे १, ३१) ।  
अगहिल्ल वि [अग्रहिल्ल] जो भूतादि से आविष्ट  
न हो, अभागन (उप ५२७ टी) ।  
°राय पु [°राज] एक राजा, जो वान्तव में  
पागल न होने पर भी पागल-प्रजा के आक्रमण से  
बनावटी पागल बना या (ती २१) ।  
अगाड वि [अगाध] अघाह, बहुत गहरा:  
'अगाडपरणेमु वि नाविअणा' (सूत्र १, १३) ।  
अगामिय वि [अग्रामिक] ग्रामरहित, 'आ-  
मियाए अडवीए' (श्रौप) ।  
अगार पु [अगार] 'अ' अक्षर (विसे ४८४) ।  
अगार न [अगार] १ गृह, घर (उप ३७) ।  
२ पु गृहस्थ, गृही ससारी (दस १) । °र्य  
वि [°र्य] गृही, (आचा) । °धम्म पुं  
[°धर्म] गृहि-धर्म, श्रावक-धर्म (श्रौप) ।  
अगारग वि [अकारक] अकर्ता (सूयनि ३०) ।  
अगारि वि [अगारिन] गृहस्थ, गृही (सूत्र  
२, ६) ।  
अगारी स्त्री [अगारिणी] गृहस्थ स्त्री (वच  
४) ।  
अगाल देवो अयाल (उप ८२) ।  
अगाह वि [अगाध] गहरा, गभीर (पात्र) ।  
अगिणि देवो अग्नि (सक्ति १२) ।  
अगिला स्त्री [अगलानि] अखिलता, उन्माह  
(ठा ५, १) ।  
अगिला स्त्री [दे] अज्ञा, तिरस्कार (दे १,  
१७) ।  
अगीय वि [अगीत] शास्त्रों का पूरा ज्ञान-  
जिनको न हो वैसा (जैन साधु) (उप ८३३  
टी) ।

अगीयत्य वि [अगीतार्थ] ऊपर देखो ( वव १ ) ।

अगुज्महर वि [दे] गुप्त वात को प्रकाशित करनेवाला (दे १,४२) ।

अगुण देखो अअण (पि २६५) ।

अगुण वि [अगुण] १ गुणरहित, निगुण (गडड) । २ पु दोष, दूषण (दन ५) ।

अगुणासी देखो एगुणासी (पव २४) ।

अगुणि वि [अगुणिन्] गुण-वर्जित, निगुण (गडड) ।

अगुरु } वि [अगुरु] १ वडा नही सो,  
अगुरुअ } छोटा, लघु । २ पुन मुगन्वि काष्ठ विशेष, अगुरु-चन्दन; 'धूत्रेण कि अगुरुयो किमु ककणेर' (कप्पू, पचम २,११) ।

अगुरुलहु } देखो अगुरुलहु (सम ५१,  
अगुरुलहुअ } ठा १०) ।

अगुलु देखो अगुरु, 'सखतिणिसागुलुचंदरणाइ' (निचू २) ।

अग न [अग्रव] प्रकपं (उत्त २०, १५) ।

अग पुंन [दे] १ परिहास । २ वणंन (सखि ४७) ।

अग न [अग्र] १ आगे का भाग, ऊपर का भाग (कुमा) । २ पूर्वभा, पहले का भाग (निचू १) । ३ परिमाण, 'अग्रं ति वा परिमाण ति वा एगट्टा' (आचू १) । ४ वि. प्रधान, श्रेष्ठ (सुपा २४८) । ५ प्रथम, पहला (आच १) । ६ स्वध पुं [स्कन्ध] सैन्य का अग्र भाग (से ३,४०) । ७ गामिग वि [गामिग] अग्रगामी, आगे जानेवाला (स १४७) । ८ ज देखो य (दे ६, ४६) । ९ जम्म [जन्मन्] देखो य (उप ७२८ टी) । १० जाय [जात] देखो य (आचा) । ११ जीहा स्त्री [जिहा] जीभ का अग्र-भाग । १२ णिय, णी वि [णी] अगुआ, मुखिया, नायक (कप्पू; नाट) । १३ तावस पुं [तापस] ऋषि-विशेष का नाम (सुज १०) । १४ न [ार्ध] पूर्वार्ध (निचू १) । १५ पिंड पुं [पिण्ड] एक प्रकार का मित्रात्र (आचा) । १६ प्पहारि वि [प्रहारिन्] पहले प्रहार करनेवाला (आच १) । १७ वीय वि [वीज] जिसमें बीज पहले ही उत्पन्न हो जाता है या जिसकी उत्पत्ति में उसका अग्र-

भाग ही कारण होता है, जैसे आम, कोरंटक आदि वनस्पति (परण १, ठा ४,१) । १८ मणि पुं [मणि] मुख्य, श्रेष्ठ, शिरोमणि (उप ७२८ टी) । १९ महिसी स्त्री [महिषी] पट-रानी (सुपा ४६) । २० य वि [ज] १ आगे उत्पन्न होने वाला । २ पु. ब्राह्मण । ३ वडा भाई । ४ स्त्री वडो बहन (नाट) । ५ लोग पुं [लोक] मुक्तिस्थान, मिद्धि-भेल (आ १२) । ६ हत्य पुं [हस्त] १ हाथ का अग्र-भाग (उवा) । २ हाथ का अवलम्बन, सहारा (से ४,३) । ३ अगुली (प्राप) ।

अग न [अग्र] १ प्रभूत, बहु । २ उपकार (आचानि २८५) । ३ भाव न [भाव] घनिष्ठान्नाय का गौरव (ज ७, पत्र ५००) ।

माहिसी देखो महिसी (उत्त १६, १) ।

अग वि [अग्र] १ श्रेष्ठ, उत्तम (से ८, ४४) । २ प्रधान, मुख्य (उत्त १४) ।

अगओ अ [अग्रतस्] सामने, आगे (कुमा) ।

अगथ वि [अग्रन्थ] १ घनरहित । २ पु जैन साधु (श्रीप) ।

अगक्खध पु [दे] रणभूमि का अग्रभाग (दे १,२७) ।

अगल न [अर्गल] १ किवाड वन्द करने की लकड़ी, आगल (दन ५,२) । २ पु एक महा-ग्रह (सुज २०) । ३ पासय पु [पाशक] जिसमें आगल दिया जाता है वह स्थान (आचा २,१,५) । ४ पासाय पु [प्रासाद] जहाँ आगल दिया जाता है वह घर (राय) ।

अगल वि [दे] अधिक, 'वीसा एक्कगला' (पिग) ।

अगला स्त्री [अर्गला] आगल, हुटका (पात्र) ।

अगलिअ वि [अर्गलित] जो आगल से बन्द किया गया हो वह (सुर ६,१०) ।

अगवेअ पु [दे] नदी का पूर (दे १,२६) ।

अगह पु [आग्रह] आग्रह, हठ, अग्निविशेष (सूत्र १,१,३, स ५१३) ।

अगहण न [अग्रहण] १ अज्ञान (सुर १२, ४६) । २ नही लेना (से ११,६८) ।

अगहण न [दे अग्रहण] अनादर, अवज्ञा (दे १,१७, से ११,६८) ।

अगहणिया स्त्री [दे] सीमतोन्नयन, गर्भाधान के बाद किया जाता एक संस्कार और उसके

उपलक्ष्य में मनाया जाता उत्सव, जिसको गुज-राती भाषा में 'अग्रघणो' कहते हैं (सुपा २३) ।

अगह वि [आग्रहिन्] आग्रही, हठी (सूत्र १,१३) ।

अगहिवि [दे] १ निर्मित, विरचित । २ स्वीकृत, कबूल किया हुआ (पड) ।

अगगाणी वि [अग्रणी] मुख्य, प्रधान, नायक, 'दक्खिअदयाकलिओ अग्रणी सयलवणिय-सत्यस्त' (सुर ६,१३८) ।

अगगारण न [उद्गारण] वमन, वान्ति (चाह ७) ।

अगगाह वि [अगाध] अगाध, गभीर, 'खीरा-दहिणुव्व अगाह' (गुरु ४) ।

अगगाहार पु [अगाधार] ग्राम-विशेष का नाम (सुपा ५४५) ।

अगगाहार पुं [दे अगाहार] उच्च जीविका (सुव २,१३) ।

अग्नि पुं [अग्नि] नरकावास-विशेष, एक नरक-स्थान (दिवेन्द्र २७) । २ मत, वत वि [मत्] अग्निवाला (प्राक ३५) । ३ हुत्त देवो होत्त (उत्त २५, १६, सुज २५, १६) ।

अग्नि पु स्त्री [अग्नि] १ भाग, वहि (प्रासू २२), 'एस पुण कावि अग्नी' (सट्टि ६१) । २ कृत्तिका नक्षत्र का अग्निवाक देव (ठा २, ३) । ३ लोकान्तिक देव-विशेष (आवम) । ४ आरिआ स्त्री [कारिका] अग्नि-कर्म, होम (कप्पू) । ५ उत्त पु [पुत्र] ऐरवत क्षेत्र के एक तीर्थंकर का नाम (सम १५३) । ६ कुमार पुं [कुमार] भवनपति देवों की एक अवा-न्तर जाति (परण १) । ७ कोण पुं [कोण] पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा (सुपा ६८) । ८ जस पु [यशस] देव-विशेष (दीव) । ९ ज्योय पु [द्योत] भगवान् महा-वीर का पूर्ववर्ष वीसवें ब्राह्मण-जन्म का नाम (आचू) । १० ट्ट वि [स्थ] आग में रखा हुआ (हे ४,४२६) । ११ ट्टोम पु [ट्टोम] यज्ञ विशेष (पि १००,१५६) । १२ थंभणी स्त्री [स्तम्भनी] आग की शक्ति को रोकनेवाली एक विद्या (पचम ७, १३६) । १३ दत्त पु [दत्त] १ भगवान् पार्श्वनाथ के समकालीन ऐरवत क्षेत्र के एक तीर्थंकर देव (तित्य) । २ भद्रवाहू

स्वामी का एक शिष्य (कप्प) । °दाग पु [°दान] सातवें वामुदेव के पिता का नाम (पचम २०, १८०) । °देव पु [°देव] देव-विशेष (दीव) । °भूइ पु [°भूति] १ भगवान् महावीर का द्वितीय गणघर (कप्प) । २ भगवान् महावीर का पूर्वोय अठारहवें ब्राह्मण-जन्म का नाम (आचू) । °माणत्र पु [°मागव] अग्निकुमार देवों का उत्तर-दिशा का इन्द्र (ठा २, ३) । °माली ऋी [°माली] एक इन्द्राणी (दीव) । °वेस पु [°वेश] १ इस नाम का एक प्रमिद्ध ऋषि (एदि) । २ न एक गोत्र (कप्प) । °वेस पु [°वेसमन्] १ चतुर्दशी तिथि (ज) । २ दिवस का वाङ्मय, मुहूर्त (नद १०) । °वेसायग पु [°वेसायन] १ अग्निवेश ऋषि का गोत्र (एदि; न २०५) । २ अग्निवेश-गोत्र में उच्यते (कप्प) । ३ गोष्पानक का एक दिक्चर (भग १५) । ४ दिन का वाङ्मय मुहूर्त (सम ५१) । °सक्कार पु [°सस्कार] विवि-पूर्वक जलाना, दाह देना (आवम) । °सपपभा ऋी [°सप्रभा] भावान् वामुपूज्य को दोसा समय की पालकी का नाम (सम) । °सम्म पुं [°सर्मन्] एक प्रमिद्ध तपस्वी ब्राह्मण (आचा) । °सिह पु [°शिख] १ सातवें वामुदेव का पिता (सम १५२) । २ अग्निकुमार देवों का दक्षिण-दिशा का इन्द्र (ठा २, ३) । °सिह पु [°सिह] एक जैन मुनि (उप ४=६) । °सिहा-चारण पु [°शिखाचारण] अग्नि-शिक्षा में निवायतया गमन करने की शक्ति वाला साधु (पव ६८) । °सीह पु [°सिह] सातवें वामुदेव के पिता का नाम (ठा ६) । °सेण पु [°पेण] ऐतत् क्षेत्र के तीसरे और बाईसवें तीर्थकर (तिथ्य, नम १५३) । °होत्त न [°होत्र] १ अग्न्याधान, होम (विसे १६४०) । २ पु ब्राह्मण (पचम ३५, ६) । °होत्तवाड वि [°होत्रवादिन्] होम से ही स्वर्ग की प्राप्ति माननेवाला (सूत्र १, ७) । °होत्तिय वि [°होत्रिक] होम करनेवाला (मुपा ७०) ।

अग्निअ पु [अग्निअ] १ यमदग्नि नामक एक ताम्र (आचू) । २ भस्मक रोग, जिसमें दो मुछ क्षाम यह मुख्य ही हजम हो जाता है (विना १, १ विसे २०४८) ।

अग्निअ पुं [दे] इन्द्रगोप, एक जातिका छुद्र कीट (दे १, ५३) । २ वि मन्द (दे १, ५३) । अग्निआय पु [दे] इन्द्रगोप, छुद्र कीट-विशेष (पड्) ।

अग्निअ वि [आग्नेय] १ अग्नि-सम्बन्धी । २ पु लोकान्तिक देवों की एक जाति (साया १, ८) । ३ न गोत्र-विशेष, जो गोतम गोत्र की शाखा है (ठा ७) ।

अग्निआम न [आग्नेयाम] देव-विमान विशेष (नम १४) ।

अग्निअम् वि [अग्निअम्] लेने के अयोग्य (पचम ३१, ५४) ।

अग्निअ वि [अग्निअ] १ प्रथम पहला (कप्प) । २ श्रेष्ठ, प्रवान, मुख्य (मुपा १) ।

अग्निअय पु [आग्नेयक] इस नाम का एक राजपुत्र (उप ६३७) ।

अग्निअ देवो अग्निअ = अग्निन (मुख २०) । अग्निअ वि देवो अग्निअ (पचम २) ।

अग्निअ पु [अग्निअ] एक महाग्रह (ठा २, ३) ।

अग्निअ वि [अग्निअ] अत्रर्त्ती (तिरि ४०६) । अग्नीय देवो अग्नीय (उप ८४०) ।

अग्नीय न [दे] घर का एक भाग (पचम १६, ६४) ।

अग्नुच्छ वि [दे] प्रमित, निश्चित (पड्) । अग्ने अ [अग्ने] आगे, पहले (पिपा) । °यण वि [त्तन्] आगे का, पहले का (आवम) । °सर वि [°सर] श्रुत्या, मुखिया, नायक (आ २८) ।

अग्नेई स्त्री [आग्नेयी] अग्नि-कोण, दक्षिण-पूर्व दिशा (धण १८) ।

अग्नेणिय न [अग्नेणीय] दूसरा पूर्व, बारहवें जैनगम का दूसरा महान् भाग (सम २६) ।

अग्नेणी देवो अग्नेई (आवम) ।

अग्नेणीय देवो अग्नेणिय (एदि) ।

अग्नेय वि [आग्नेय] अग्नि (कोण) सम्बन्धी (अणु २१५) ।

अग्नेय वि [आग्नेय] १ अग्नि-सम्बन्धी, अग्नि का (पचम १२, १०६, विसे १६६०) । २ न शस्त्र-विशेष (सुर ८, ४१) । ३ एक

गोत्र, जो वत्स गोत्र की शाखा है (ठा ७) । ४ अग्नि-कोण, दक्षिण-पूर्व दिशा (अग्नि) । अग्नेोदय न [अग्नेोदक] समुद्रीय वेला की वृद्धि और हानि (सम ७६) ।

अग्घ अक [राज्] विराजता, शोभता, चमकना । अग्घइ (हे ४, १००) ।

अग्घ नक [आ-त्रा] सूंधना । संक अग्घे-ऊण (मम्मत्ता १४२) ।

अग्घ नक [अर्ह] योग्य होना, लायक होना; 'कल ए अग्घइ' (साया १, ८) ।

अग्घ सक [अर्घ] १ अच्यौ कीमत से देचना । २ आदर करना, ममान करना, 'पहिएण पुणो भणिय, तुव्हेहि मिट्ठि ।

कम्मि नयरम्मि ।

गतत्त्वं मो नाहइ, परिणय अग्घिस्सए जत्तं (मुपा ५०१) । वक्क अग्घायमाण (साया १, १) ।

अग्घ पु [अर्घ] १ एक देव-विमान (द्विन्द्र १-२) । २ पूजा (राय १००) ।

अग्घ पुं [अर्घ] १ मछली की एक जाति (जीव ३) । २ पूजा-नामनी (साया १, १६) । ३ पूजा में जलादि देना (कुमा) । ४ मूल्य, मोल, कीमत (निहू २) । °वत्त न [°पात्र] पूजा का पात्र (गाउड) ।

अग्घ वि [अर्घ्य] १ पूजा में दिया जाता जलादि द्रव्य (कप्प) । २ कीमती, बहुमूल्य (प्राप) ।

अग्घव नक [पूर] पूरि करना, पूरा करना । अग्घवइ (हे ४, ६६) ।

अग्घविय वि [पूर्ण] १ भरा हुआ, सपूर्ण । २ पूरा किया गया (मुपा १०६, कुमा) ।

अग्घविय वि [अर्घित] पूजित, सत्कृत, सम्मानित (वि ११, १६, गउड) ।

अग्घा नक [आ-त्रा] सूंधना । वक्क अग्घाअत्त, अग्घायमाण (गा ५६५, साया १, ८) । वक्क अग्घाअज्जमाण (परण २८) ।

अग्घाइ वि [आत्राचिन्] सूंधनेवाला, 'सम-मरपचमग्घाइणि । वारियवामे ! सहसु इरिह' (काप्र २६४) ।

अग्घाअत्त वि [आत्रात्त] सूंधा हुआ (गा ६७) ।

अग्घाअत्त वि [आत्रात्त] सूंधा हुआ (गा ६७) ।

अग्घाअत्त वि [आत्रात्त] सूंधा हुआ (गा ६७) ।

अग्घाअत्त वि [आत्रात्त] सूंधा हुआ (गा ६७) ।

अग्घाडर वि [आघ्रात्] सूफनेवाला । त्री  
री (गा ८८६) ।

अग्घाड सक [पूर] पूति करना, पूरा  
करना । अग्घाडड (हे ४, १६६) ।

अग्घाड } पुं [दे] वृत्त-विशेष, अपामानं,  
अग्घाडग } विचडा, लटजीरा (दे १, ८,  
परए १) ।

अग्घाण वि [दे] तृप्त, संतुष्ट (दे १, १८) ।

अग्घाय वि [आघ्रात] सूघा हुआ (पात्र) ।

अग्घायमाण देखो अघ = अघे ।

अग्घायमाण देखो अग्घा ।

अग्घिय वि [राजित] विराजित, शोभित  
(कुमा) ।

अग्घिय वि [अर्घित] १ बहुमूल्य, कीमती,  
'अग्घिय नाम बहुमोल' (निबु २) । २ पूजित  
(दे १, १०७, से २०२) ।

अग्घोटय न [अर्घोदक] पूजा का जल (अग्घि  
११८) ।

अघ न [अघ] १ पाप, कुकर्म (कुमा) । २ वि  
शोचनीय, शोक का हेतु, 'अघ वम्हणभाव'  
(प्रयौ ८०) ।

अघो देखो अहो (नाट) ।

अचक्खु पुन [अचक्षुस्] १ आँख के बिनाय  
वाकी इन्द्रियाँ और मन (कम्म १, १०) । २  
आँख को छोड़ वाकी इन्द्रियाँ और मन में होने-  
वाला मामान्य ज्ञान (दे १६) । ३ वि अथा,  
नेत्रहीन (कम्म ४) । ४ दसण न [दग्घेन]  
आँख को छोड़ वाकी इन्द्रियाँ और मनसे होने-  
वाला मामान्य ज्ञान (सम १५) । ५ दसणावरण  
न [दर्शनावरण] अचक्षुदंशन को रोकने-  
वाला कर्म (ठा ६) । ६ फास पु [स्पर्श]  
अवकार, अवेरा (णाय १, १४) ।

अचक्खुस वि [अघाक्षुप] जो आँख से देखा  
न जा सके (परए १, १) ।

अचक्खुसस वि [अचक्षुप्य] जिसकी देखने  
का मन न चाहता हो (वृह ३) ।

अचर वि [अचर] पृथिव्यादि न्यिर पदार्थ,  
-स्वावर (वंत) ।

अचल वि [अचल] १ निश्चल, स्थिर  
(आचा) । २ पुं यदुवंश के राजा अचक्खुपिण  
के एक पुत्र का नाम (अत ३) । एक बलदेव  
का नाम (पत्र २०६) । ४ पर्वत, पहाड़ (गउड

१२०) । ५ एक राजा, जिसने, रामचन्द्र के  
छोटे भाई के साथ जैन दीक्षा ली थी- (पउम  
८५, ४) । ६ पुर न [पुर] ब्रह्म-द्वीप के पास  
का एक नगर (कप्प) । ७ प्य न [प्यन्]   
हस्तप्रहेलिका को ८४ लाख से गुणने पर जो  
संख्या लब्ध हो वह, अन्तिम संख्या (इक) ।

८ भाय पु [भ्रात्] भगवान् महावीर का  
नववां गणवर (कप्प) ।

अचल पुं [अचल] छठवां छद् पुरुष (विचार  
४७२) ।

अचल न [दे] १ घर । २ घर का पिछला  
भाग । ३ वि कहा हुआ । ४ निष्पूर, निर्दय ।  
५ नीरम, सूखा (दे १, ५३) ।

अचला स्त्री [अचला] पृथिवी । २ एक  
इन्द्राणी (णाय २) ।

अचित्त वि [अचिन्त] निश्चिन्त, चिन्तारहित ।  
अचित्त वि [अचिन्त्य] अनिर्वचनीय, जिसकी  
चिन्ता भी न हो सके वह, अद्भुत (लहुअ ३) ।

अचित्तणिज्ज } वि [अचिन्तनीय] ऊपर  
अचित्तणीअ } देखो (अग्घि २०३, महा) ।

अचित्तिय वि [अचिन्तित] आकस्मिक,  
अप्रभावित (महा) ।

अचित्त वि [अचित्त] जीव-रहित, अचेतन,  
'चित्तमचित्त वा एव सय अजिन्ण गिएहेजा'  
(दम ४) ।

अचियत्त } वि [दे] १ अनिट, अप्रीतिकर  
अचियत्त } (सूअ २, २, परए २, ३) । २  
न अप्रीति, द्वेष (शोध २६१) ।

अचिरजुवइ देवा अश्चरजुवइ (दे १, १८ टी) ।

अचिरा देखो अइरा (पउम ३७, ३७) ।

अचिराभा स्त्री [अचिराभा] विजली, विद्युत्  
(पउम ४२, ३२) ।

अचिरेण देखो अइरेण (प्राह) ।

अचेयण वि [अचेतन] चैतन्यरहित, निर्जीव  
(परए १, २) ।

अचेल न [अचेल] १ वस्त्रों का अभाव । २  
अल्प-मूल्यक वस्त्र । ३ थोड़ा वस्त्र (सम  
४०) । ४ वि वस्त्र-रहित, तम्र । ५ जीर्ण  
वस्त्र वाला । ६ अल्प वस्त्र वाला । ७ कुत्सित  
वस्त्र वाला, मैला, 'तह योव-जुअ-कुत्तियचेले-  
हिवि मएएण अचेलोत्ति' (विसे २६०१) ।

८ परिसह, परीसह पु [परिपह, परीपह]

वस्त्र के अभाव से अथवा जीर्ण, अल्प या  
कुत्सित वस्त्र होने से उसे अदीन भाव में सहन  
करना (सम ४०, भग ८, ८) ।

अचेलग } वि [अचेलक] १ वस्त्र-रहित,  
अचेलय } तम्र । २ फटा-टूटा वस्त्र वाला । ३  
मलिन वस्त्र वाला । ४ अल्प वस्त्र वाला । ५  
निर्दोष वस्त्र वाला, ६ अनियत रूप से वस्त्र का  
उपभोग करनेवाला (ठा ९, ३),

'परिमुद्धजिएण-कुच्छियधोवानिय-  
यतभोगभोगेहि' ।  
मुणयो मुच्छारहिया, सतेहि अचेलया वृत्ति'  
(विसे २६६६) ।

अच्च सक [अर्च] पूजना, सत्कार करना ।  
अच्चेइ (श्रीप) । अच्च (दे २, ३५ टी) । कवक.  
अच्चिज्जंत (मुपा ७८) । कृ. अच्चणिज्ज  
(णाय १, १) ।

अच्च पु [अर्च्य] १ लव (काल-मान) का एक  
भेद (कप्प) । २ वि पूज्य, पूजनीय (हे १,  
१७७) ।

अच्चंग न [अत्यङ्ग] विलासिता के प्रधान  
अंग, भोग के मुख्य साधन, 'अच्चगाण च  
भोगधो माण' (पथा १) ।

अच्चत वि [अत्यन्त] हृद से ज्यादा, अत्यधिक,  
बहुत (सुर ३, २२) । २ थावर वि [स्थायर]  
अनादि-काल में स्थावर-जाति में रहा हुआ  
(भावम) । ३ दूसमा ली [दुप्पमा] देखो  
दुस्समदुस्समा (पउम २०, ७२) ।

अच्चतिअ वि [आत्यन्तिक] १ अत्यन्त,  
अधिक, अनिश्चित । २ जिमका नाश कभी  
न हो वह, शाश्वत (सूअ २, ६) ।

अच्चग वि [अचेक] पूजक (चैत्य १२) ।

अच्चग्गल वि [अत्यर्गल] निरकुश, अनियंत्रित  
(मोह ८७) ।

अच्चण न [अर्चन] पूजा, सम्मान (सुर ३,  
१३; सत् १० टी) ।

अच्चणा ली [अर्चना] पूजा (अशु ५७) ।

अच्चणिया ली [अर्चनिका] अर्चन, पूजा (राय  
१०८) ।

अच्चत्त वि [अत्यक्त] नहीं छोड़ा हुआ, अप-  
रित्यक्त (उप पृ १०७) ।  
अच्चत्थ वि [अत्यर्थ] १ अतिशयित, बहुत



(परह १, १) । २ गनीर अर्थ वाला (राय) ।  
३ द्विवि. ज्याता, अयत (सुर १, ७) ।

अञ्चमुय वि [अत्यद्भूत] बड़ा आश्चर्य-जनक  
(प्राम् ४२) ।

अञ्चय पुं [अत्यय] १ विपरीत आचरण (बृह  
३) । विनाश, मरण (उव) ।

अञ्चय वि [अर्चक] पूजक, 'अणवधायण च  
चिन्तणाय, जहारिहं रक्खणवद्धणति' (विवे  
७० टी) ।

अञ्चर } न [आश्चर्य] विस्मय, चमत्कार  
अञ्चरिअ } (विक्र ६४, प्रवो १७, रंभा, भवि,  
अञ्चरीअ } नाट) ।

अञ्चहम वि [अत्यधम] अति नीच (कप्पु) ।

अञ्चा स्त्री [अर्चा] पूजा, मत्कार (गउउ) ।

अञ्चा स्त्री [अर्चा] १ शरीर, देह (सूत्र १, १३,  
१७, १, १५, १८, २, २, ६, ठा १, पय १६) ।

२ लेश्या, चित्त-वृत्ति (सूत्र १, १३, १७, १,  
१५, १८) । ३ ऐश्वर्य (ठा ३, १-पय ११७) ।

अञ्चासण पुं [अत्यशन] पक्ष का वारहवा  
दिन, द्वादशी तिथि (नुज १०, १४) ।

अञ्चासणया स्त्री [अत्यासनता] खूब बैठना,  
देर तक या वारंवार बैठना (ठा ६) ।

अञ्चासणया स्त्री [अत्यशनता] खूब खाना  
(ठा ६) ।

अञ्चासण } न [अत्यासन्न] अति समीप  
अञ्चासन्न } खूब नजदीक (भग १, १, उवा) ।

अञ्चासाइय } वि [अत्याशातित] अपमा-  
अञ्चामादिय } नित, हैरान किया गया (ठा  
१०, भग ३, २) ।

अञ्चामाय मक [अत्या + शातय] अपमान  
करना, हैरान करना । वक्क अञ्चासाएमाग  
(ठा १०) । हेहू अञ्चासाइत्तए (भग ३, २) ।

अञ्चाहिअ } वि [अत्याहित] १ महा भीति,  
अञ्चाहिद } बड़ा भय । २ झूठा, असत्य (स्वप्न  
४७) । ३ ऐसा जलमी कार्य, जिसमें प्राण-  
हानि की सम्भावना हो (अग्नि ३७) ।

अञ्चि स्त्री [अर्चिस्] १ कान्ति, तेज (भग  
२, ५) । २ अग्नि की ज्वाला (परण १) ।  
३ किरण (राय) । ४ दीप की राखा (उत्त  
३) । ५ न लौकान्तिक देवों का एक विमान  
(सम १४) । °मालि पुं [°मालिन्] १  
सूर्य, रवि (सूत्र १, ६) । २ वि. किरणों  
से शोभित (राय) । ३ न लौकान्तिक देवों

का एक विमान (सम १४) । °माली स्त्री  
[°माली] १ चन्द्र और सूर्य की तृतीय अग्र-  
महिषी का नाम (ठा ४, १) । २ 'मातासूर'  
के द्वितीय श्रुतस्वन्ध के एक अग्रयन का नाम

(राया २) । ३ शक्रेन्द्र की तृतीय अग्रमहिषी  
की राजधानी का नाम (ठा ४, २) । °मालिणी

स्त्री [°मालिनी] चन्द्र और सूर्य की एक अग्र-  
महिषी का नाम (भग १०, ५, इक) ।

अञ्चिअ वि [अर्चित] १ पूजित, मल्लत (गा  
१५०) । २ न विमान-विशेष (जीव ३,  
पय १३७) ।

अञ्चित्त देवो अचित्त (श्रोष २२, सुर १२,  
२७) ।

अञ्चीकर मक [अर्ची + कृ] १ प्रशंसा  
करना । २ खुशामद करना । अञ्चीकरेइ ।

वक्क. अञ्चीकरत (निचू ५) ।

अञ्चीकरण न [अर्चीकरण] १ प्रशंसा ।  
२ खुशामद,

'अञ्चीकरण ररणो, गुणवयण  
त समासओ हुविहं ।

संतमसत च तथा,  
पञ्चरत्नपगेक्खमेक्केइ ।' (निचू ५) ।

अञ्चुअ पु [अच्युत] १ विष्णु (प्रचु ५) ।  
२ वारहवा देवलोक (सम ३९) । ३ ग्यारहवा

श्रीर वारहवा देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३) ।  
४ अच्युत-देवलोकवासी देव, 'त चैव आरण-

च्युय श्रोहिएणारोएण पासति' (विसे ६६६) ।

°नाह पु [°नाथ] वारहवा देवलोक का  
इन्द्र (भवि) । °वइ पु [°पति] इन्द्र-विशेष

(मुपा ६१) । °वडिसग न [°वतसक]  
विमान-विशेष का नाम (सम ४९) । °सग्ग

पुं [°स्वर्ग] वारहवा देवलोक (भवि) ।  
अञ्चुअ पुन [अच्युत] एक देव-विमान

(देवेन्द्र १३५) ।  
अञ्चुआ स्त्री [अच्युता] छठवें और सतरहवें

तीर्थंकर की शासनदेवी (सति ६, १०) ।  
अञ्चुइंद पुं [अच्युतेन्द्र] ग्यारहवा और वार-

हवा देवलोक का स्वामी, इन्द्र-विशेष (परम  
११७, ७) ।

अञ्चुकड वि [अच्युत्कट] अत्यन्त उग्र  
(आवम) ।

अञ्चुग्ग वि [अच्युय] ऊपर देखो (पव  
२२४) ।

अञ्चुअ वि [अच्युअ] खूब ऊंचा, विशेष  
उन्नत (उप ६८६ टी) ।

अञ्चुद्विय वि [अच्युत्थित] अकार्य करने को  
तेय्यार (सूत्र १, १४) ।

अञ्चुण्ह वि [अच्युण्ण] खूब गरम (ठा ५,  
३) ।

अञ्चुत्तम वि [अच्युत्तम] अति श्रेष्ठ (वप्पु) ।  
अञ्चुदय न [अच्युदक] १ बड़ी वर्षा (श्रोष  
३०) । २ प्रभूत पानी (जीव ३) ।

अञ्चुदार वि [अच्युदार] अत्यन्त उदार  
(स ६००) ।

अञ्चुन्नय वि [अच्युन्नत] बहुत ऊंचा  
(वप्पु) ।

अञ्चुत्तमड वि [अच्युत्तड] अति प्रबल  
(भवि) ।

अञ्चुवयार पु [अच्युपकार] महान् उपकार  
(गा ५१४) ।

अञ्चुवयार पु [अच्युपचार] विशेष मेवा-  
नुयूपा (गा ५१४) ।

अञ्चुव्वाय वि [अच्युद्वात] अत्यन्त घका  
हुमा (वृह ३) ।

अञ्चुसिण वि [अच्युष्ण] अधिक गरम  
(आचा २, १, ७) ।

अञ्चे अक [अति + इ] १ अतिक्रान्त होना,  
गुजरना । २ मक उल्लंघन करला । अञ्चेइ

(उत्त १३, ३१, सूत्र १, १५, ८) ।

अञ्चे तक [अत्या + इ] त्याग करवाना ।  
अञ्चेही (सूत्र १, २, ३, ७) ।

अञ्चेअर न [आश्चर्य] आश्चर्य, विस्मय  
(विक्र १५) ।

अच्छ अक [आस्] बैठना । अच्छइ (हि  
१, २१४) । वक्क अच्छंत, अच्छमाण

(सुर ७, १३, राया १, १) । इ अच्छि-  
यव्व अच्छेयव्व (पि ५७०, सुर १२

२२८) ।

अच्छ सक [आ + छिद्] १ काटना,  
छेदना । २ खींचना । अच्छे (आचा १, १, २,

३) । सक अच्छित्तु (आवक २२५), अच्छेत्तु  
(पिड ३६८) ।

अच्छ वि [अच्छ] १ स्वच्छ, निर्मल  
(कुमा) । २ पुं. स्फटिक रत्न (पव २७५) ।  
३ पु व. आर्य देश-विशेष (पव २७५) ।

अच्छ-पुं [अच्छ] रोछ, भालू (परह १, १)।

अच्छ वि [आच्छ] अच्छे देश मे उत्पन्न (परण ११)।

अच्छ पुं [अच्छ] मेह पर्वत (सुख ५)।  
२ न. तीन बार झौटा हुआ न्वच्छ पानी (पहि)।

अच्छ न [दे] १ अत्यन्त, विशेष। २ शीघ्र, जल्दी (दे १, ४६)।

अच्छ वि [अक्षि] आख, नेत्र (कुमा)।

अच्छ पुं [कच्छ] १ अधिक पानीवाला प्रदेश। २ लताओ का समूह। ३ वृण, घात (से ६, ४७)।

अच्छ पुं [वृक्ष] वृक्ष, पेड़ (से ६, ४७)।

अच्छ अ पु [अक्षक] १ वहेडा का वृक्ष।  
२ न स्वच्छ जल (से ६, ४७)।

अच्छ अर न [आश्चर्य] विस्मय, चमत्कार (कुमा)।

अच्छद वि [अच्छन्द] जो स्वाधीन न हो, पराधीन, अच्छदा जे ए भुंजति ए से चाइति बुधद (दंश २)।

अच्छक देखो अत्यक्क (गंठ)।

अच्छण न [आसन] १ बैठना (राया १, १)। २ पातकी वर्गरेह मृत्तानन (श्रीघ ७८)।

अच्छ न [गृह] वियाम स्थान (जीव ३)।

अच्छग न [दे] १ सेवा, शुद्ध्या (बृह ३)।  
२ देवता, अवलोकन (वव १)। ३ अहिंसा, दया (दम ८)।

अच्छणिउर न [अच्छनिकुर] अच्छनि-  
कुराग को चौरासी लाख मे गुणने पर जो संख्या लख हो वह (ठा २, १)।

अच्छणिउरग न [अच्छनिकुराङ्ग] सख्या-  
विशेष, नलिन को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लख हो वह (ठा २, १)।

अच्छण वि [अच्छन्न] अगुप्त, प्रकट (बृह ३)।

अच्छमल्ल पुं [अच्छमल्ल] रोछ, भालू (दे १, ३७, परह १, १)।

अच्छमल्ल पुं [दे] यल, देव-विशेष (दे १, ३७)।

अच्छरया देखो अच्छरा (पह)।

अच्छरय पुं [आस्तरक] शय्या पर विछाने का वस्त्र-विशेष (राया १, १)।

अच्छरसा } स्त्री [अप्सरस्] १ इन्द्र की  
अच्छरा } पटरानी (ठा ६)। २-ज्ञाता-  
धर्मकथा का एक अन्वयन (राया २)।  
३ देवी (पठम २, ४१)। ४ ख्यवती स्त्री (परह १, ४)।

अच्छरा स्त्री [दे अप्सरा] चुटकी, चुटकी का आवाज (सूत्र २, २, ५४)।

अच्छराणिवाय पुं [दे] १ चुटकी। २ चुटकी बजाने में जितना समय लगता है वह, अत्यल्प समय (परण ३६)।

अच्छरिअ } न [आश्चर्य] विस्मय, चम-  
अच्छरिज्ज } त्कार (हे १, ५८, प्रयी ४२)।  
अच्छरीअ }

अच्छल न [अच्छल] निर्दोषता, अनपराध (दे १, १०)।

अच्छवि वि [अच्छवि] जैन-दर्शन मे जिमको स्नातक कहते हैं वह, जीवनमृतक योगी (भग २५, ६)।

अच्छविकर पुं [अक्षपिकर] एक प्रकार का मानसिक विनय (ठा ८)।

अच्छहल्ल पुं [अक्षमल्ल] रोछ, भालू (पात्र)।

अच्छा स्त्री [अच्छा] वल्ल देश की राज-  
धानी (पव २७५)।

अच्छा स्त्री [कक्षा] गर्व, अभिमान (से ६, ४७)।

अच्छाइ वि [आच्छादिन्] डकनेवाला,  
आच्छादक (स ३५१)।

अच्छायण न [आच्छादन] १ डकना (दे ७, ४५)। २ वस्त्र, कपडा (आचा)।

अच्छायणा स्त्री [आच्छादना] डकना, आच्छा-  
दित करना (वव ३)।

अच्छायत वि [अच्छातान्त] तीक्ष्ण, धार-  
दार (पात्र)।

अच्छि मि [अच्छि] आंख, नेत्र (हे १, ३३, ३५)।

अच्छमण न [मलन] आंख का मलना (बृह २)।

णिमीलिय न [निमीलित] १ आंख को मूंदना,  
मौंचना। २ आंख मिचने में जो समय लगे

वह, 'अच्छिणिमीलियमेत्, शात्वि सुहं दुक्खमेव  
अणुवद्ध। एरण एरइआण, अहोणिस पञ्च-  
माणण' (जीव ३)। ०पत्त न [पत्र] आंख  
का पक्ष, पपनी (भग १४, ८)। ०वेहग पुं  
[वेधक]-एक चतुरिन्द्रिय जन्तु, क्षुद्र जीव-  
विशेष (उत्त ३६)। ०रोहय पु [रोहक]  
एक चतुरिन्द्रिय जन्तु, क्षुद्र कीट-विशेष (उत्त ३६)। ०ल्ल वि [मत्त] १ अंख वाला  
प्राणी। २ चतुरिन्द्रिय जन्तु (उत्त ३६)। ०मल  
पुं [मल] आंख का मैल, कीट (निचू ३)।

अच्छिद सक [आ + छिद्] १ थोडा छेद  
करना। २ एक बार छेद करना। ३ बलात्कार  
से छीन लेना। वक्क अच्छिदमाण (भग  
८, ३)।

अच्छिद पु [अक्षीन्द्र] गोशालक के एक  
दिक्चर (शिष्य) का नाम (भग १५)।

अच्छिदण न [आच्छेदन] १ एक बार  
छेदना (निचू ३)। २ छीनना। ३ थोडा  
छेद करना, थोडा काटना (भग १५)।

अच्छिक्क वि [दे] असुष्ट, नही हुआ हुआ  
(वव १)।

अच्छिक्कवल्ल वि [दे] अप्रोतिकर। २ पु  
वेग, पीगाक (दे १, ४१)।

अच्छिज्ज वि [आच्छेच्च] १ जवरदस्ती जो  
दूसरे से छीन लिया जाय (पिंड)। २ पुं  
जैन साधु के लिए भिजा का एक दोष  
(आचा)।

अच्छिज्ज वि [अच्छेच्च] जो तोडा न जा  
सके (ठा ३, २)।

अच्छित्ति स्त्री [अच्छित्ति] १ नाश का  
अभाव, नित्यता। २ वि नाश-रहित (विने)।

अच्छिण पु [अच्छिण] नित्यता-वाद, वस्तु को  
नित्य माननेवाला पक्ष (पव)।

अच्छिइ वि [अच्छिद्र] १ छिद्र-रहित,  
निविड, गाढ (ज २)। २ निर्दोष (भग २, ०)।

अच्छिणण वि [आच्छिन्न] १ बलात्कार  
अच्छिन्न } से छीना हुआ। २ छेदा हुआ,  
तोडा हुआ (पात्र)।

अच्छिणण वि [अच्छिन्न] १ नहीं तोडा  
अच्छिन्न } हुआ, अलग नहीं किया हुआ (ठा  
१०)। २ अव्यवहित, अन्तर-रहित (गउड)।

अच्छिप्य वि [अस्पृश्य] पूने के अयोग्य (गुण २८१) ।

अच्छिप्यत वि [अस्पृशन्] स्पर्श नहीं करता हुआ (श्रा १०) ।

अच्छिद्य वि [आसित] बैठा हुआ (पि ४८०, ४६५) ।

अच्छिद्यवडण न [दे] अंश का सूँदना (दे १, ३६) ।

अच्छिद्यविअच्छि स्त्री [दे] पन्थर-आकारपण, श्रापस की सींचतान (दे १, ४१) ।

अच्छिहरिल्ल } देखो अच्छिघरुल्ल (दे  
अच्छिहरुल्ल } १, ४१) ।

अच्छी देखो अच्छि (७भा) ।

अच्छुक्क न [दे] अक्षि-कूप-नुसा, अंश का कोटर (गुण २०) ।

अच्छुत्ता स्त्री [अच्छुत्ता] १ एक विद्यावि-  
ष्टान्नी देवी (ति ८) । २ भगवान् मुनिमुवत  
स्वामी की शासनदेवी (संति १०) ।

अच्छुद्धसिरी स्त्री [दे] इच्छा से अधिक फल  
की प्राप्ति, असमावित लान (पट्) ।

अच्छुल्लूढ वि [दे] निष्कामित, बाहर निकाला  
हुआ, त्याग-भ्रष्ट किया हुआ (वृह १) ।

अच्छेज्ज देखो अच्छिज्ज (ठा ३, २, ४) ।

अच्छेर | न [आश्चर्य] १ विलस्य, चमत्कार  
अच्छेरग (हे १, ५८) । २ पुन विलस्य-जनक  
अच्छेरया घटना, अपूर्व घटना (ठा १०,  
१३८) । ३ कर वि [०कर] विलस्य-जनक,  
चमत्कार उपजानेवाला (श्रा १४) ।

अच्छोड सक [ आ + छोट् ] १ पटकना,  
पड़ाडना । २ सिंचना, छिटकना, 'अच्छोडेमि  
मिनाए तिल तिल कि नु छिदामि' (सूर १५,  
२३, सुर २, २४५) ।

अच्छोड पुं [आच्छोट] १ सिंचन । २  
आस्फालन करना, पटकना (श्रा ३५७) ।

अच्छोडण न [आच्छोटन] १ सिंचन । २  
आस्फालन (सुर १३, ४१, गुण ५६३, वेणी  
१०६) । ३ मृगया, शिकार (दे १, ३७) ।

अच्छोडाचिय वि [दे आच्छोटित] वचित,  
बंवाया हुआ (स ५२५, ०२६) ।

आच्छोडिअ वि [दे] आच्छोट, खींचा हुआ;  
'अच्छोडिअवत्यद' (गा १६०) ।

अच्छोडिअ वि [आच्छोटित] सिक्क, सिंचा  
हुआ (सुर २, २४५) ।

अच्छोडिअ वि [आच्छोटित] पटका हुआ,  
आन्कालित (सुर ४२३) ।

अच्छिप्य वि [अस्पृश्य] स्पर्श करने के अयोग्य,  
'भो मुण्णोअच्छिप्यो पुत्तुग्गपाए, न उए  
पुरिसो' (गुण ४८७) ।

अज देखो अय = अज (पठम ११, २५, २६) ।  
अजगर देखो अयगर (भवि) ।

अजह पुं [दे] जाह, उपपति (पट्) ।

अजह वि [अजह] १ पक, विनयित  
(गडड) । २ निपुण, चतुर (कुमा) ।

अजम वि [दे] १ मरल, शत्रु (पट्) । २  
जमाईन (पभा १५) ।

अजय वि [अयत] १ पाप-कर्म से अविग्न,  
नियम-रहित (कम्म ४) । २ अनुयोगी, यत्न-  
रहित (श्रयो ५४) । ३ उपयोग-रूप, वेत्यान  
(गुण ५२०) । ४ किंचि वेत्यान से, अनुप-  
योग से; अजय चरमाणो य पाएणुयाड हिन्द  
(दम ४, उवर ४ टी) ।

अजय पु [अजय] पट्पद उदं वा एव भेद  
(पिण) ।

अजयग स्त्री [अयतना] अनुसयो, त्याग  
नहीं रखना, गलतती (गच्छ ३) ।

अजर वि [अजर] १ वृद्धावस्था-रहित, बुढ़ापा-  
वजित । २ पु देव, देवता (श्रावम) । ३ मुक्त  
आत्मा (श्राव) ।

अजराउर वि [दे] उष्ण, गरम (दे १, ४५) ।

अजरामर वि [अजरामर] १ बुढ़ापा और  
मृत्यु न रहित, 'एतिय कोइ जगम्मि अजरा-  
मरो' (महा) । २ न मुक्ति, मोक्ष । ३ स्त्री  
'रा विद्या-विशेष (पठम ७, १३६) ।

अजस पु [अयगस्] १ अपयश, आकीर्ति  
(उप ७६८) । २ ०किर्तिणाम न [०कीर्ति-  
नामन्] अपकीर्ति का कारण-भूत एक कर्म  
(सम ६७) ।

अजस्स किंचि [अजस्स] निरन्तर, हमेशा,  
'आमरणतमजस्सं सजमपरिपालणं विहिणा'  
(पचा ७) ।

अजा देखो अया (कुमा) ।

अजाण वि [अज्ञान] अनजान, मूर्ख (रयण  
८५) ।

अजाणअ वि [अज्ञायक] अनजान, जानकारी-  
रहित (काल) ।

अजागणा स्त्री [अज्ञान] जानकारी-रहित वे-  
मगनी, 'अयाणगणा, तजनी न क्या तम्म'  
(श्रा २८) ।

अजाणुय वि [अज्ञायक] अज्ञ, नहीं जानने-  
वाला (ठा ३, ४) ।

अजाय वि [अजात] अनुसन्न, अनियत ।  
'कप्प पुं [०कप्प] गाळो को पूरा-पूरा नहीं  
जाननेवाला जैन साधु, श्रीगार्ग्य, 'गीयय  
जायवणो अगीषो मत्तु भवे अजायो अ' (धर्म  
३) । ३ कल्पिय पु [०कल्पिक] अगीतार्थ  
जैन साधु (गच्छ १) ।

अजिअ वि [अजित] १ अविजित, अविज-  
नूत । २ पु दुन्दु वे तीर्थंकर का नाम (अदि  
१) । ३ नववे तीर्थंकर का अग्रिष्ठाना देव  
(संति ७) । ४ एक भावी अनेक (ती २१) ।  
'वला सो [०वला] नावान् अजितनाय को  
शासनदेवी (पव २८) । 'सेण पुं [०सेण]  
१ एक प्रसिद्ध राजा (भान) । २ श्रीवा बुद्धकर  
(ठा १०) । ३ एक विख्यात जैन मुनि  
(अन ४) ।

अजिअ पुं [अजित] भगवान् महिनाय का  
प्रथम श्रावक (विचार ३७८) ।

अनाह पु [०नाथ] नवमा स्त्र पुत्र्य (विचार  
४७३) ।

अजिअ वि [अजीव] जीव-रहित, अचेतन  
(कम्म १, १५) ।

अजिअ वि [अजय्य] जो जीता न जा सके  
(गुण ७५) ।

अजिया स्त्री [अजिता] १ भगवान् अजित-  
नाय की शासन देवी (संति ६) । २ चतुर्थ  
तीर्थंकर की एक मुख्य शिष्या (तिद्व) ।

अजिण न [अजित] १ हरण आदि पशुओं  
का चमटा (उत्त ५, दे ७, २७) । २ वि  
जितने राण-द्वेष का सर्वथा नारा नहीं किया  
है वह (भग १५) । ३ जिन भगवान् के तुल्य  
मत्स्योपदेशक जैन साधु, 'अजिणा जिणसकात्ता,  
'जिणा इवावितह वागेरेमाण' (श्राप) ।

अजिण देवो अइज्ज = अजीण (भाव) ।

अजियंघरं पुं [अजितघर] 'याह् रुं मे  
आठवा स्त्र पुत्र्य (विचार ४७३) ।

अजिर न [अजिर] आंगन, चौक (सण) ।

अजीर } देखो अइज्ज = अजीरां ( नव १,  
अजीरय } राया १, १३) ।

अजीरण देखो अइज्ज = अजीरां (पिड २७,  
पव १३१) ।

अजीव पु [अजीव] अचेतने, निर्देव, जड  
पदार्थ (नव २) । °काय पुं [°काय] धर्मा-  
न्तिकाय प्रादि अजीव पदार्थ (भा ७, १०) ।

अजुअ पु [दे] वृक्ष-विशेष, सप्तच्छद, सतीना  
(दि १, १७) ।

अजुअ न [अयुत] दश हजार, 'दोरिण महन्ना  
रहाण, पच अजुयाणि हयाण' (महा) ।

अजुअलवण पु [अयुगलपण] सतीना (दि  
१, ४८) ।

अजुअलवण्णा स्त्री [दे] इमनी का पेड (दि  
१, ४८) ।

अजुत्त वि [अयुत्त] अयोग्य, अनुचित  
(विसे) । °कारि वि [°कारिन्] अयोग्य कार्य  
करनेवाला (मुपा ६०४) ।

अजुत्तीय वि [अयुत्तिक] युक्ति-शून्य, अन्वय्य  
(सुर १२, ५४) ।

अजुय देखो अउअ, 'पच अजुयाणि हयाण सत्त  
कोटीमो पाइक्खणण' (सुव ६, १) ।

अजेअ वि [अजत्र] जो जीता न जा सके,  
'सो मउउरयणपहावेण अजेअ दोमुहरया'  
(महा) ।

अजोग पुं [अयोग] मन, वचन और काया  
के सब व्यापारों का जिममें अभाव होता है  
वह सर्वोत्कृष्ट योग, शैलेशी-करण (श्रीप) ।

अजोग वि [अयोग्य] अयोग्य, लायक नहीं  
वह (नीचू ११) ।

अजोगि पु [अयोगिन्] १ सर्वोत्कृष्ट योग को  
प्राप्त योगी । २ मुक्त आत्मा (ठा २, १, कम्म  
४, ४७, ५०) ।

अज्ज सक [अर्ज] पैदा करना, उपाजंन  
करना, कमाना । अज्जइ (हे ४, १०८) । मक  
अज्जिय (पिग) ।

अज्ज वि [अर्थ] १ वैश्य । २ स्वामी, मालिक  
(दि १, ५) ।

अज्ज वि [आर्थ] १ निर्देव । २ आर्थ-गोत्र मे  
उत्पन्न (एदि ४६) । ३ शिष्ट-जनोचित, 'अज्जाइ  
कम्माइ करेहि राय' (उत्त १३, ३२) । °खउड  
वुं [°खपुट] एक जैन आचार्य (कुप्र ४४०) ।

अज्ज वि [आर्थ] १ उत्तम, श्रेष्ठ (ठा ४, २) ।

२ मुनि, साधु (कप्प) । ३ सत्यकार्य करने-  
वाला (वव-१) । ४ पूज्य, मान्य (विपा-१,  
१) । ५ पु. मातामह (निसी) । ६ पितामह

(राया १, ८) । ७ एक ऋषि का नाम  
(एदि) । ८ न गोत्र-विशेष (एदि) । ९ जैन

साधु, साध्वी और जनकी शाखाओं के पूर्व मे  
यह शब्द प्राय लगता है, जैसे अज्जवइर,

अज्जचदगा, अज्जपोमिला (कप्प) । °उत्त  
पुं [°पुत्र] १ पति, भर्ता (नाट) । २ मालिक

का पुत्र (नाट) । °घोस पु [°घोष] भगवान्  
पार्श्वनाथ का एक गणगर (ठा ८) । °मगु पु

[°मङ्ग] एक प्राचीन जैनाचार्य (साध २२) ।  
°मिस्स वि [°मिश्र] पूज्य, मान्य (अभि  
१३) । °समुद्द पु [°समुद्र] एक प्रसिद्ध

जैनाचार्य (साध २२) ।

अज्ज अ [अद्य] आज (सुर २, १६७) ।  
°त्त वि [°तन] अधुनातन, आजकल का

(रभा) । °त्ता स्त्री [°ता] आज कल (कप्प) ।  
°प्पभिइ अ [°प्रभृति] आज ने ले कर

(उवा) ।

अज्ज पु [दे] १ जिनेन्द्र देव । २ बुद्ध देव (दि  
१, ५) ।

अज्ज न [आज्य] धी, घृत्त (पाअ) ।  
अज्ज° देवो रि = ऋ ।

अज्ज अ [अद्य] आज (गा ५८) ।  
अज्जत वि [आयत्] आगामी । °काल पुं

[°काल] भविष्य काल (पाअ) ।  
अज्जहिज्जो अ [अद्यह्य] आजकल (उप पृ

३-४) ।  
अज्जकालिअ वि [अद्यकालिक] आजकल का

(अणु १५८) ।  
अज्जग देखो अज्जय = अर्जक, 'अज्जगतहमज-

रिख' (मुपा ५३) ।  
अज्जग देखो अज्जय = आर्थक (निर १, १) ।

अज्जण सक [अर्ज] उपाजंन करना । सक  
अज्जणित्ता (सूअ १, ५, २, २३) ।

अज्जण - } [अर्जन] उपाजंन, पैदा करना  
अज्जणण } (था १२, सत्त १८), 'रख केरिस-

मेव करेमुवाय तदज्जणणे' (उप ७ टी) ।  
अज्जम पु [अर्थमन] १ सूर्य (पि  
२६१) । २ देव-विशेष (ज ७) । ३ उत्तरा-

णालुनी नक्षत्र का अधिष्ठायक देव (ठा २,  
३) । ४ न. उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र (ठा २,  
३) ।

अज्जय पुं [आर्थक] १ मातमह, मा का  
वाप (पचम १०, २) । २ पितामह, पिता का

पिता (भग ६, ३३), 'ज पुण अज्जय-पज्जय-

जणयज्जियग्रत्यमज्जमो दाण परमत्यमो कनक  
तय तु पुरिसामिमाणी' (सुर १, २२०) ।

अज्जय वि [अर्जक] १ उपाजंन करनेवाला,  
पैदा करनेवाला (मुपा १२४) । २ पु वृक्ष-

विशेष (पण १) ।

अज्जय पु [दे] १ सुरम नामक तृण । २  
गुरेटक नामक तृण (दि १, ५४) । ३ तृण,

घास (निचू ११) ।  
अज्जल पुं [आर्थल] म्लेच्छों की एक जाति

(पण १) ।  
अज्जच न [आर्जव] सरलता, निष्काटता

(नव २६) ।  
अज्जय (अप) देखो अज्ज = आर्थ । °खड पु

[खण्ड] आर्थ-देश (भवि) ।  
अज्जवया स्त्री [आर्जव] अजुता, सरलता

(पक्खि) ।  
अज्जयि वि [आर्जविन्] सरल, निष्कपट

(घ्राचा) ।  
अज्जविय न [आर्जव] सरलता (सूअ १, ५,

२, २३) ।  
अज्जा स्त्री [आर्या] १ साध्वी (गच्छ २) ।

२ गौरी, पार्वती (दि १, ५) । ३ आर्या छन्द  
(ज २) । ४ भगवान् मल्लिनाथ की प्रथम

शिष्या (सम १५२) । ५ मान्या, पूज्या स्त्री  
(पि १०६, १४३, १४५) । ६ एक कला

(श्रीप) ।  
अज्जा स्त्री [आजा] आदेश, हुकुम (हे २,  
८३) ।

अज्जाय वि [अजात] अनुत्पन्न, 'अज्जायस्सि-

यरस्सवि, एस सहावो ति दुग्घडं जाए' (धर्मस  
२७०) ।

अज्जाव सक [आ + ज्ञापय] आज्ञा करना,  
हुकुम फरमाना । क. अज्जावेयव्व (सूअ  
२, १) ।

अज्जिअ वि [अर्जित] उपाजित, पैदा किया  
हुआ (था १४) ।

अज्ञिआ स्त्री [आयिका] ? मान्या, पूज्या स्त्री । २ साध्वी, सन्यासिनी (सम ६५, पि ४४८) । ३ माता की माता (दत्त ७) । ४ पिता की माता (स २५५) ।

अज्ञिद्वीअ वि [दे] दत्ता, दिया हुआ (वव १ टी) ।

अज्ञिणण देखो अज्जणण (उप ६६४) ।

अज्जीव देखो अजीव, धम्मावम्मा पुण्णल, नह कालो पच हुति अज्जीवा' (नव १०) ।

अज्जु (अप) अ [अद्य] आज (हे ४, ३४३, भवि; पिग) ।

अज्जुअ (शौ) देखो अज्ज = आयं (नाट) ।

अज्जुआ (शौ) देखो अज्जा = आयं (पि १०५) ।

अज्जुण पु [अर्जुन] ? तीक्ष्णपारण्डव (राया १, १६) । २ वृक्ष-विशेष (राया १, ६, श्रौप) । ३ गौशालक के एक दिक्कर (शिष्य) का नाम (भग १५) । ४ न श्वेत सुवर्ण, सफेद सोना; 'सव्वज्जुणमुवण्णगमइ' (श्रौप) । ५ तृण-विशेष (परण १) । ६ अर्जुन वृक्ष का पुष्प (राया १, ६) ।

अज्जुणग ? [अर्जुनक] १-६ ऊपर देखो । अज्जुणय ? ७ एक माली का नाम (अव १८) ।

अज्जू स्त्री [आर्या] साम, श्वरू (हे १, ७७) ।

अज्जोग देखो अजोग = शयोग (पच १) ।

अज्जोगि देखो अजोगि (पंच १) ।

अज्जोरुह न [दे] वनस्पति-विशेष (परण १) ।

अज्जकख वि [अध्यक्ष] अधिष्ठाता (कप्प) ।

अज्ज पुं [दे] यह (पुरुष, मनुष्य) (दे १, ५०) ।

अज्जक्त देखो अज्जकप्प (सूत्र १, २, २, १२) ।

अज्जकथ वि [दे] भागत, माया हुआ (दे १, १०) ।

अज्जकथ ? न [अध्यात्म] ? आत्मा मे, आत्म-अज्जकथ ? सवंधी, आत्म-विषयक; (उत्ता १, आचा) । २ मन में, मन सवंधी, मनो-विषयक (उत्ता ६, सूत्र १, १६, ४) । ३ मन, चित्त, 'अज्जकथपणायण' (दत्तनि १, २६) । ४ शुभ-ध्यान, 'अज्जकथ-रण सुसमाहि-अप्पा, सुत्तत्थं च विभाणइ जे स निक्क' (दत्त १०, १५) । ५ पु आत्मा (श्रौघ ७४५) । ० जोग पुं [० जोग]

योग-विशेष, चित्त की एकाग्रता (सूत्र १, १६,

४) । ० दोस पुं [० दोष] आख्यात्मिक दोष—

क्रोध, मान, माया और लोभ (सूत्र १, ६) । ० वृत्तिय वि [० प्रत्ययिक] चित्त-हेतुक, मन

मे ही उत्पन्न होनेवाला शोक, चिन्ता आदि (सूत्र २, २, १६) । ० विसोहि स्त्री [० विशुद्धि] आत्म-शुद्धि (श्रौघ ७४५) । ० सवुड वि [० सवृत्त] मनो-निग्रही, मन को काबू में रखने-वाला (आचा) । ० सुड स्त्री [० श्रुति] अथ्यात्म-शास्त्र, आत्म-विद्या, योग-शास्त्र (परह २, १) । ० सुद्धि स्त्री [० शुद्धि] मन की शुद्धि (आचू १) । ० मोहि स्त्री [० शुद्धि] मन-शुद्धि (आचू १) ।

अज्जस्थिय वि [आध्यात्मिक] आत्म-विषयक, आत्मा या मन से संबंध रखनेवाला (विपा १, १, भग २, १) ।

अज्जमथीअ देखो अज्जमथिय (पव १०१) ।

अज्जमपिअ वि [आध्यात्मिक] ? अध्यात्म का जानकार (अज्ज ०) । २ अध्यात्म सम्बन्धी (सूत्रनि ६४) ।

अज्जमय वि [दे] प्रतिवेष्टिक, पढेती (दे १, १७) ।

अज्जमयण पुन [अध्ययन] ? शब्द, नाम (वंद १) । २ पढना, अभ्यास (विसे) । ३ श्रव्य का एक अश्र (विपा १, १) ।

अज्जमयणि वि [अध्ययनिन्] पढने वाला, अभ्यासी (विने १४६५) ।

अज्जमाव मक [अधि + आप्] पढाना, सीखाना । १ अज्जमाविति (विसे ३१६६) ।

अज्जमवस सक [अध्यय + सो] विचार करना, चिन्तन करना । वहु अज्जमवसंत (सुपा ५६५) ।

अज्जमवसण ? न [अध्यवसान] चिन्तन, अज्जमवमाण ? विचार, आत्म-परिणाम; 'तो कुमरेणं भणियं, मुणिएणुगव । रडसुहज्जमवस-एपि । कि इयपन्नयं जायइ ?' (सुपा ५६६, प्राचू १०४; विपा १, २) ।

अज्जमवसाय पुं [अध्यवसाय] विचार, आत्म-परिणाम, मानसिक सकल्प (आचा; कम्म ४, ८२) ।

अज्जमवसिय वि [अध्यवसित] निश्चित, (धम्मसं ४२८) ।

अज्जमवमिय वि [अध्ययमित] ? जियमा चिन्तन किया गया हो वह (श्रौप) । २ न चिन्तन, विचार (अणु) ।

अज्जमवसिय न [दे] मुंडा हुआ मूह (दे १, १०) ।

अज्जमसिय वि [दे] देवा हुआ, दृष्ट (दे १, ३०) ।

अज्जमस्त मक [आ + क्रुग] आक्रोश करना, अभिगाप देना । अज्जमस्तइ (दे १, १३) ।

अज्जमस्त वि [आक्रुष्ट] जिय पर आक्रोश अज्जमस्तिय ? किया गया हो वह (दे १, १३) ।

अज्जमहिय वि [अध्ययिक] अभ्यत, प्रतिश-यित (महा) ।

अज्जमा स्त्री [दे] ? असती, कुनटा । २ अज्जमा स्त्री । ३ नवोदा, दुनहिन । ४ युवती स्त्री । ५ यह (स्त्री) (दे १, ५०; गा ८३८, ८४८, वजा ६४) ।

अज्जमा } सक [अधि + ङ] अभ्यन करना, अज्जमाअ } पढना । अज्जमाअि, (सुत्र २, १३) । हेहू, अज्जमाइउ (सुत्र २, १३) ।

अज्जमाअ सक [अध्यापय] पढाना । कर्म अज्जमाअइउ (सुत्र २, १३) ।

अज्जमाइअच्च वि [अध्येतव्य] पढने योग्य, 'मुअ मे नविन्मइ ति अज्जमाइअच्चं भवइ' (दत्त ६, ४, ३) ।

अज्जमाय पुं [अध्याय] ? पठन, अभ्यास (नाट) । २ श्रव्य का एक अश्र (विसे १११०, प्राप) ।

अज्जमारुह पुं [अध्यारुह] ? वृक्ष-विशेष । २ वृक्षों के ऊपर बढनेवाली बल्ली या शाखा वगैरह (परण १) ।

अज्जमारोव पुं [अध्यारोप] आरोप, उपचार (धम्मसं ३५२, ३५३) ।

अज्जमारोवण न [अध्यारोपण] ? आरोपण, ऊपर बढाना । २ पृच्छना, प्रश्न करना (विसे २६२८) ।

अज्जमारोह पुं [अध्यारोह] देखो अज्जमारुह (सूत्र २, ३, ७, १८, १९) ।

अज्जमाव देखो अज्जमाअ = अध्यापय । अज्जमा-वेइ (सुत्र २, १३) । वक अज्जमावअत (हास्य १२४) ।

अज्जमावग देखो अज्जमावय (दत्तनि १, १ टी) ।

अज्जमवमिय वि [अध्ययमित] ? जियमा चिन्तन किया गया हो वह (श्रौप) । २ न चिन्तन, विचार (अणु) ।

अज्जमवसिय न [दे] मुंडा हुआ मूह (दे १, १०) ।

अज्जमसिय वि [दे] देवा हुआ, दृष्ट (दे १, ३०) ।

अज्जमस्त मक [आ + क्रुग] आक्रोश करना, अभिगाप देना । अज्जमस्तइ (दे १, १३) ।

अज्जमस्त वि [आक्रुष्ट] जिय पर आक्रोश अज्जमस्तिय ? किया गया हो वह (दे १, १३) ।

अज्जमहिय वि [अध्ययिक] अभ्यत, प्रतिश-यित (महा) ।

अज्जमा स्त्री [दे] ? असती, कुनटा । २ अज्जमा स्त्री । ३ नवोदा, दुनहिन । ४ युवती स्त्री । ५ यह (स्त्री) (दे १, ५०; गा ८३८, ८४८, वजा ६४) ।

अज्जमा } सक [अधि + ङ] अभ्यन करना, अज्जमाअ } पढना । अज्जमाअि, (सुत्र २, १३) । हेहू, अज्जमाइउ (सुत्र २, १३) ।

अज्जमाअ सक [अध्यापय] पढाना । कर्म अज्जमाअइउ (सुत्र २, १३) ।

अज्जमाइअच्च वि [अध्येतव्य] पढने योग्य, 'मुअ मे नविन्मइ ति अज्जमाइअच्चं भवइ' (दत्त ६, ४, ३) ।

अज्जमाय पुं [अध्याय] ? पठन, अभ्यास (नाट) । २ श्रव्य का एक अश्र (विसे १११०, प्राप) ।

अज्जमारुह पुं [अध्यारुह] ? वृक्ष-विशेष । २ वृक्षों के ऊपर बढनेवाली बल्ली या शाखा वगैरह (परण १) ।

अज्जमारोव पुं [अध्यारोप] आरोप, उपचार (धम्मसं ३५२, ३५३) ।

अज्जमारोवण न [अध्यारोपण] ? आरोपण, ऊपर बढाना । २ पृच्छना, प्रश्न करना (विसे २६२८) ।

अज्जमारोह पुं [अध्यारोह] देखो अज्जमारुह (सूत्र २, ३, ७, १८, १९) ।

अज्जमाव देखो अज्जमाअ = अध्यापय । अज्जमा-वेइ (सुत्र २, १३) । वक अज्जमावअत (हास्य १२४) ।

अज्जमावग देखो अज्जमावय (दत्तनि १, १ टी) ।

अज्जावण न [अध्यापन] पाज्ज (सिरि २७) ।  
 अज्जावणा स्त्री [अध्यापना] पढाना (कम्म १, ६०) ।  
 अज्जावण वि [अध्यापक] पढानेवाला, शिक्षक, गुरु (वसु, चुर ३, २६) ।  
 अज्जावस अक [अध्या + वस्] रहना, वास करना । वक्क अज्जावसंत (उवा) ।  
 अज्जास पु [अध्यास] १ ऊपर बैठना । २ निवास-स्थान (सुपा २०) ।  
 अज्जासणा स्त्री [अध्यासना] सहन करना (राज) ।  
 अज्जासिअ वि [अध्यासित] १ आश्रित, आश्रित । २ स्थापित, निवेशित (नाट) ।  
 अज्जाहय वि [अध्याहृत] १ उत्तेजित, 'सीय-लेणं सुरहिगंधमट्टियागवेण हत्थी अज्जाहमो वण समरेइ' (महा) ।  
 अज्जीण वि [अक्षीण] १ अक्षय, अक्षूट । २ न अव्ययन (विसे ६५८) ।  
 अज्जुववज्ज देवो अज्जोववज्ज (पि ७७, श्रौप) ।  
 अज्जुववण देवो अज्जोववण (विपा १, १) ।  
 अज्जुववाय देवो अज्जोववाय (उप पृ २८१) ।  
 अज्जुसिअ वि [अध्युपित] आश्रित (पिंड ४४०) ।  
 अज्जुसिरि वि [अशुपिर] छिद्र-रहित (शोध ३१३) ।  
 अज्जेउ वि [अध्येउ] पढनेवाला (विसे १४६५) ।  
 अज्जेलेली स्त्री [दे] दोहने पर भी जिसका दोहन हो सके ऐसी गैया (दे १, ७) ।  
 अज्जेसणा स्त्री [अध्येसणा] अधिक प्रार्थना, विशेष याचना (राज) ।  
 अज्जेयरग पु [अध्ययपूरक] १ साधु के अध्ययन के लिए अधिक रसोई करना । २ साधु के लिए बढ़ाकर की हुई रसोई (श्रौप; पव ६७) ।  
 अज्जेह्लिआ स्त्री [दे] वक्ष-स्थल के ग्राम्भ-पण में की जाती मोतियों की रचना (दे १, ३३) ।  
 अज्जेवगमिय वि [आभ्युपगमिक] स्वेच्छा से स्वीकृत (परण ३४) ।

अज्जेववज्ज अक [अध्युप + पट्] अत्यासक्त होना, आर्मात्क करना । अज्जेववज्जइ (पि ७७) । भविअज्जेववज्जिहिइ (श्रौप) ।  
 अज्जेववण वि [अध्युपपन्न] अत्यंत अज्जेववण आसक्त (विपा १, २, राया १, २, महा, पि ७७) ।  
 अज्जेववाय पुं [अध्युपपाद्] अत्यन्त आस-क्ति, तल्लीनता (परह २, ५) ।  
 अज्जेवणा देवो अज्जेवणा, 'पममो पसन्नव-यणो विहिणा सन्वाणभावणाकुसलो' (संवाव २४) ।  
 अट्ट सक [अट्] भ्रमण करना, घूमना । अट्टइ (पड्, हे १, १६५), परिअट्टइ (हे ४, २३०) ।  
 अट्ट सक [कथ्] काय करना । अट्टइ (हे ४, ११६; पड्, गड) ।  
 अट्ट अक [शुप्] सूखना, शुष्क होना । अट्टति (मे ५, ६१) । वक्क अट्टंत (मे ५, ७२) ।  
 अट्ट वि [आर्त] १ पीडित, दुःखित (विपा १, १) । २ ध्यान-विशेष—इष्ट-संयोग, अनिष्ट-वियोग, रोग-निवृत्ति और भविष्य के लिए चिन्ता करना (ठा ४, १) । °ण वि [°इ] पीडित की पीडा को जाननेवाला (पड्) ।  
 अट्ट वि [ऊत] गत, प्राप्त (राया १, १, भग १२, २) ।  
 अट्ट पुन [अट्ट] १ दूकान, हाट (श्रा १४) । २ महल के ऊपर का घर, अट्टरो (कुमा) । ३ आकाश (भाग) २०, २) ।  
 अट्ट वि [दे] १ कृश, दुर्बल । २ बडा, महान् । ३ निर्लज्ज, देशरम । ४ आलसी, सुस्त । ५ पु शुक्, तोता । ६ शब्द, आवाज । ७ न. सुख । ८ भूठ, असत्योक्ति (दे १, ५०) ।  
 अट्टइ वि [दे] गया हुआ, गत (दे १, १०) ।  
 अट्टइहास पु [अट्टइहास] देवो अट्टइहास (उव) ।  
 अट्टण न [अट्टण] १ व्यायाम, कसरत (श्रौप) । २ पु. इस नाम का एक प्रसिद्ध मल्ल (उत्त ४) । °शाला स्त्री [°शाला] व्यायाम-शाला, कसरत-शाला (श्रौप; कप्प) ।  
 अट्टण न [अट्टण] परिभ्रमण (धर्म ३) ।  
 अट्टणा स्त्री [आयत्तना] आवृत्ति (प्राक् ३१) ।

अट्टमट्ट वि [दे] निरर्थक, व्यर्थ, निकम्मा (सुख ५, ८) ।  
 अट्टमट्ट पुं [दे] १ आलवान, कियारी (हे २, १७४) । २ अशुभ संकल्प-विकल्प, पाप-संबद्ध अव्यवस्थित विचार, 'अणवट्टिय मणो जस्स भाइ बहुयाड अट्टमट्टाइ । त चित्तियं च न लहइ, सच्चिण्णइ य पावकम्माइ' (उव) ।  
 अट्टय पुं [अट्टक] १ हाट, दूकान (श्रा १२) । २ पात्र के छिद्र को बन्द करने में उपयुक्त द्रव्य-विशेष (बृह १) ।  
 अट्टयक्कली स्त्री [दे] कमर पर हाथ रखकर खडा रहना (पाप्र) ।  
 अट्टहास पु [अट्टहास] बहुत हंसना, खिल-खिला कर हसना (पि २७१) ।  
 अट्टालग पुं [अट्टालक] महल का उपरि-अट्टालय भाग, अट्टारी (सम १३७, पउम २, ६) ।  
 अट्टि स्त्री [आर्ति] पीडा, दुःख (आचा) ।  
 अट्टिय वि [आर्तित] शोकादि से पीडित, 'अट्टा अट्टियचित्ता, जह जीवा दुक्खसागरमुव्वेति' (श्रौप) ।  
 अट्टिय वि [अर्दित] व्याकुल, व्यग्र; 'अट्टदुह-ट्टियचित्ता' (श्रौप) ।  
 अट्ट पु [अर्थ] समय (सूत्र १, २, २, १६) ।  
 अट्ट पुन [अर्थ] ५ वस्तु, पदार्थ (उवा २; अचु), 'अट्टदंती' (सूत्र १, १४), 'अट्टाई, हेऊइ, पसिणाई' (भग २, १) । २ विषय, 'इदियट्टा' (ठा ६) । ३ शब्द का अभिधेय, वाच्य (सूत्र १, ६) । ४ मतलब, तात्पर्य (विपा २, १; भास १८) । ५ तत्त्व, परमार्थ; 'तुम्मे-त्य भो भारहरा गिराण, अट्ट न याणाह अहिज वेए' (उत्त १२, ११), 'इओ चुएसु दुहमट्ट-दुग्ग' (सूत्र १, १०, ६) । ६ प्रयोजन, हेतु (हे २, २३) । ७ अभिलाष, इच्छा; 'अट्टो भते ! मागेहि, हता अट्टो' (राया १, १६, उत्त ३) । ८ उद्देश्य, लक्ष्य (सूत्र १, २, १) । ९ धन, पैसा (श्रा १४, आचा) । १० फल, लाभ, 'अट्टजुत्ताणि सिक्खेज्जा गिराण्णि उ वज्जे' (उत्त १) । ११ मोक्ष, मुक्ति (उत्त १) । °कर पु [°कर] । १ मंत्री । २ निमित्त शस्त्र का विद्वान् (ठा ४, ३) । °जाय वि [°जातार्थ] ]

जिनकी आवश्यकता हो, जिसका प्रयोजन हो वह, 'अट्टेण जस्म वज्ज मजात एस अट्टजायो य' (वव २) । 'जाय वि [°याच] घनार्थो, घन की चाहवाला (वव २) । 'सइय वि [°शतिक] नौ अर्थवान्ना, निम्नका सौ अर्थ हो नके ऐना (वचन प्रादि) (ज २) । 'मेण प [°मेन] देवो अट्टिसेण देवो अत्य=अर्थ ।

अट्ट वि व [अष्टन] सन्ध्या-विशेष, आठ, ८ (जी ४१) । 'चत्ताल वि [°चत्वारिंश] अठतानीसवां (पठम ४८, १२६) । 'चत्तालीस वि [°चत्वारिंशत्] अठतानीस (पि ८४५) । 'ट्टमिया स्त्री [°ष्टमिका] जैन माधुओं का ६४ दिन का एक व्रत, प्रतिमा-विशेष (सम ५८) । 'तालीस वि [°चत्वारिंशत्] अठतानीस (नाट) । 'तीम वि [°त्रिंशत्] सन्ध्या-विशेष, अठनीस (सम ६५, पि ४४२, ४४५) । 'तीसइम वि [°त्रिंश] अठनीसवां (पठम ३८, ५८) । 'त्तरि स्त्री [°सप्तति] अठत्तर, ७८ की सख्या (पि ४४६) । 'तीस वि [°त्रिंशत्] अठनीस (सुपा ६५९, पि ४४५) । 'दम वि [°द्विगण] अठारह, १८ (सति ३) । 'दसुत्तरसय वि [°द्विगोत्तर-शत्] एक सौ अठारहवां (पठम ११८, १२०) । 'दह वि [°दशन्] अठारह, १८ की सख्या (पिग) । 'पएसिय वि [°प्रदेशिक] आठ अवयव वाला (ठा १०) । 'पया स्त्री [°पदा] एक वृत्त, छन्द-विशेष (पिग) । 'पाहरिअ वि [°प्राहरिक] आठ प्रहर सबवी (सुर १५, २१८) । 'भाइया स्त्री [°भागिनी] नरल वन्तु नामने का वतीम पलों का एक परिमाण (अणु) । 'म न [°म] तेला लगातार तीन दिनों का उपवास (सुर ४५५) । 'मगल पुन [°मङ्गल] न्वन्तिक प्रादि आठ मासिक वन्तु (राय) । 'मभक्त पुन [°मभक्त] वेना, लगातार तीन दिनों का उपवास (साया १, १) । 'मभक्तिय वि [°मभक्तिक] तेला करनेवाला (विपा २, १) । 'मी स्त्री [°मी] तिथि-विशेष, अष्टमी (विपा २, १) । 'मुत्ति पुं [°मूर्ति] महादेव, गिब (ठा ६) । 'याल वि [°चत्वारिंशत्] अठतानीस (सवि) । 'वन्न वि [°पञ्चागन्] सन्ध्या-विशेष, अट्टावन, ५८ (कम्म १, ३२) । 'वरिस, 'वारिस वि [°वार्थिक] आठ वर्ष

की उम्र का (सुर २, १४६, ८, १०१) । 'विह वि [°विध] आठ प्रकार का (जी २४) । 'वीस स्त्री [°विंशति] अट्टाईस (कम्म १, ५) । 'सट्टि स्त्री [°पष्टि] सन्ध्या-विशेष, अठसठ (पि ४४२-६) । 'समइय वि [°सामयिक] जिसकी अवधि आठ 'समय' की हो वह (श्रीप) । 'सय न [°शत] एक सौ आठ, १०८ (ठा १०) । 'सहस्स न [°सहस्र] एक हजार श्रीप आठ (श्रीप) । 'मामइय देवो 'समइय (ठा ८) । 'सिर वि [°शिरम्, 'सिर] अष्टकोण, आठ कोण वाला (श्रीप) । 'सेण पुं [°मेन] देवो अट्टिसेण । 'हत्तर वि [°सप्ततितम] अठत्तरवां (पठम ७८, ५७) । 'हत्तरि स्त्री [°सप्तति] अठत्तर की सन्ध्या ७८ (मम ८६) । 'हा म [°धा] आठ प्रकार का (पि ४५१) । 'अट्ट न [°नाष्ट] काष्ठ, लकड़ी (प्रयो ५५) । 'अट्टग वि [°अष्टाङ्ग] जिसका आठ अंग हो वह । 'णिमित्त न [°निमित्त] वह गात्र जिममे भूमि, म्वन, गरीर, न्वर प्रादि आठ विषयो के फलाफल का प्रतिपादन हो (सुप्र १, १२) । 'महाणिमित्त न [°महानिमित्त] अनन्तर-उक्त अर्थ (कप्प) । 'अट्टंस वि [°अष्टास्र] अष्ट-कोण (सुप्र २, २, १५) । 'अट्टविट्ठि स्त्री [°अष्टदष्टि] योग की आठ दृष्टियां, वे ये हैं —मित्रा, तारा, वना, दीप्रा, स्थिरा, वान्ता, प्रमा और परा (मिरि ६२३) । 'अट्टय न [°अष्टक] आठ का समूह (वव १) । 'अट्टा स्त्री [°अष्टा] १ मुष्टि, 'चट्ठि अट्टाहि लोचं करेड' (ज २, स १८२) । २ मुट्टीमर चीज (पचव २) । 'अट्टा स्त्री [°आस्था] श्रद्धा, विश्वास (सुप्र २, १) । 'अट्टा स्त्री [°अर्थ] लिए, वान्ते, 'तडया य मरुो दिव्वो, समप्पिमो जीवरक्खट्टा' (सुर ६, ६, ठा ५, २) । 'दड पु [°दण्ड] कार्य के लिए की गई हिजा (ठा ५, २) । 'अट्टाइस वि [°अष्टाविंश] अट्टाईसवां (पिग) । 'अट्टाइस स्त्री [°अष्टाविंशति] सत्वा-अट्टाईस विशेष, अट्टाईस (पिग, पि ४४२) । 'अट्टाण न [°अस्थान] १ शयोग्य स्थान (ठा ६, वित्ते ८४५) । २ कुत्तित स्थान, देश्या का मुहल्ला वरीरह (वव २) । ३ अयोग्य, गैरव्याजवी

'अट्टारामेयं कुसला वयति, दोगेण जे सिद्धिपुया-हरति' (सुप्र १, ७) । 'अट्टाण न [°आस्थान] सना, गभा-गृह (ठा ५, १) । 'अट्टाणउट्ट स्त्री [°अष्टानवति] अठानवे, ६८ (मम ६६) । 'अट्टाणउय वि [°अष्टानवत] अठानवेवां, ६८ वां (पठम ६८, ७८) । 'अट्टाणउड देवो अट्टाणउड (सुप्र २१६) । 'अट्टाणिय वि [°अस्थानिक] अपान अनायक 'अट्टाणिए होड व्ह उणाए, जेरणाएअंकाइ मृत्तं वएजा' (सुप्र १, १३) । 'अट्टायमाण वहु [°अतिष्ठन्] नहीं बैठता हुआ (पचा १६) । 'अट्टार वि व [°अष्टादशन्] नन्पा अट्टारम } विशेष, अट्टारह (पठम ३५, ७६, चति ८) । 'विह वि [°विध] अठारह प्रकार का (सम ३५) । 'अट्टारसग न [°अष्टादशक] १ अठारह का समूह (पंचा १४, २) । २ वि जिसका मूल्य अठारह मुद्रा हो वह (पच १११) । 'अट्टारसम वि [°अष्टादश] १ अठारहवां (पठम १८, ५८) । २ न लगातार आठ दिनों का उपवास (साया १, १) । 'अट्टारसिय वि [°अष्टादशिक] अठारह वर्ष की उम्र का (वव ४) । 'अट्टारह } देवो अट्टार (पठ, पिग) । 'अट्टाराह } 'अट्टावण्ण } स्त्रीन [°अष्टापञ्चाशत्] सन्ध्या-अट्टावन्न } विशेष, पचास और आठ, ८८ (पि २६५, सम ७८) । 'अट्टावन्न वि [°अष्टापञ्चाश] अठानवां (पठम ५८, १६) । 'अट्टावय पुं [°अष्टापद] १ स्वनाम-स्थान पर्वत-विशेष बैलास (परह १, ४) । २ न एक जानि का जुआ (परह १, ४) । ३ द्यूत-फलक, जिस पर जुआ लेना जाता है वह (परह १, ४) । ४ नुवणं, सोना (अण ८) । 'सेल पुं [°शैल] १ मरु-पर्वत । २ स्वनाम-स्थान पर्वत-विशेष, जहाँ भगवान् ऋषभदेव निर्वाण पाये थे, 'जन्मि तुमं अहिंसितो, जत्य य सिवमुक्क-सपय पत्तो । ते अट्टावयसेला, सोनामेला गिरि-कुलम्' (अण ८) ।

अट्टावय न [अथेपद] गृहस्य (दम ३, ४) ।  
 अट्टावय न [अर्थपद] अर्थ-शास्त्र, सपत्ति-शास्त्र  
 (सूत्र १, २ परह १, ४) ।  
 अट्टावीस स्त्रीन [अष्टाविंशति] अष्टाईस, २८  
 (पि ४४२, ४४५) ।  
 अट्टावीसइ स्त्री [अष्टाविंशति] संख्या-विशेष,  
 अष्टाईस, २८ । °विह वि [°विध] अष्टाईस  
 प्रकार का (पि ४५१) ।  
 अट्टावीसइम वि [अष्टाविंश] १ अष्टाईसवां  
 (पञ्च २८, १४१) । २ न तेरह दिनो के  
 लगातार उपवास (शाया १, १) ।  
 अट्टासट्टि स्त्री [अष्टापष्टि] संख्या-विशेष, अठ-  
 सठ, ६८ (पिग) ।  
 अट्टासि } स्त्री [अष्टाशीति] संख्या-विशेष  
 अट्टासीइ } अठामी, ८८ (पिग, सम ७३) ।  
 अट्टासीय वि [अष्टाशीत] अठामीवां (पञ्च  
 ८८, ४४) ।  
 अट्टाह न [अष्टाह] आठ दिन (शाया १, ८) ।  
 अट्टाहिया स्त्री [अष्टाहिका] १ आठ दिनो  
 का एक उत्सव (पञ्च ८) । २ उत्सव (शाया  
 १, ८) ।  
 अट्टि वि [अर्थिन्] प्रार्थी, गरजवाला, अभि-  
 लापी (आचा) ।  
 अट्टि पु [अस्थि] १ हड्डी, हाड; 'अय अट्टी'  
 (सूत्र २, १, १६) । २ फल की गुट्टी (दस  
 ५, १, ७३) ।  
 अट्टि } स्त्रीन [अस्थि, °क] १ हड्डी, हाड  
 अट्टिग } (कुमा; परह १, ३) । २ जिसमे  
 अट्टिय } बीज उत्पन्न न हुए हो ऐसा अपरि-  
 पक्व फल (वृह १) । ३ पु कापालिक, 'अट्टी  
 विन्वा कुच्छियमिक्खु' (वृह १, वव २) ।  
 °मिजा स्त्री [°मिजा] हड्डी के भीतर का रस  
 (ठा ३, ४) । °सरक्ख पुं [°सरजस्क] कापा-  
 लिक (वव ७) । °सेण न [°पेण] १ वस्त्र-  
 गोत्र की शास्त्ररूप एक गोत्र । २ पु इम गोत्र  
 का प्रवर्तक पुरुष और उसकी मन्तान (ठा ७) ।  
 अट्टिय वि [अर्थिक] १ गरजू, याचक, प्रार्थी  
 (सूत्र १, २, ३) । २ अर्थ का कारण, अर्थ  
 सम्बन्धी । ३ मोक्ष का हेतु, मोक्ष का कारण  
 भूत; 'पसन्ना लाभइन्सति विजल अट्टिय सुय'  
 (उत्त १) ।

अट्टिय वि [आर्थिक] १ अर्थ का कारण, अर्थ-  
 सम्बन्धी । २ मोक्ष का कारण (उत्त १) ।  
 अट्टिय वि [अर्थित] अभिलपित, प्रार्थित  
 (उत्त १) ।  
 अट्टिय वि [अस्थित] १ अव्यवस्थित, अनि-  
 यमित (परह १, ३) । २ चंचल, चपल (से  
 २, २४) ।  
 अट्टिय वि [आस्थिक] हड्डी-सम्बन्धी, हाड  
 का, 'अट्टिय रम सुणमा' (भत्त १४२) ।  
 अट्टिय वि [आस्थित] स्थित, रहा हुआ, (से  
 १, ३५) ।  
 अट्टिय पु [अस्थिक] १ वृक्ष-विशेष । २ न.  
 फल-विशेष, अस्थिक वृक्ष का फल (दस ९,  
 १, ७३) ।  
 अट्टिल्लय पुं [अस्थि] फल की गुट्टी (पिड  
 ६०३) ।  
 अट्टुत्तर वि [अष्टोत्तर] आठ से अधिक  
 (औप) । °सय न [°शत] एक सौ और  
 आठ (काल) । °सय वि [°शततम] एक  
 सौ आठवां (पञ्च १०८, ५०) ।  
 अठ } देखो अट्ट = अष्टम् (पिग, पि ४४२,  
 अड } १४६, भग सम १३४) ।  
 अड सक [अट्] भ्रमण करना, फिरना;  
 'अडति संसारे' (परह १, १) । वक्र अडमाण  
 (शाया १, १४) ।  
 अड पु [अवट] १ कूप, डनारा (पात्र) । २  
 कूप के पास पशुओं के पानी पीने के लिए  
 जो गतं किया जाता है वह (हे १, ३७१) ।  
 °अड देखो तड = तट (गा ११७, मे १,  
 ५५) ।  
 अडइ } स्त्री [अटवि, °वी] मयानक जंगल,  
 अडई } वन (सुपा १८१, नाट) ।  
 अडडल्लिम्य न [दे] विपरीत मैथुन (दे १,  
 ४२) ।  
 अडरप्पम्म सक [दे] समालना, रक्षण करना ।  
 कर्म 'अडखम्मिज्जति सवस्सिआहि वणे' (दे १,  
 ४१) ।  
 अडखम्मिअ वि [दे] संभाला हुआ, रक्षित  
 (दे १, ४१) ।  
 अडड न [अटट] 'अटटाग' को चौरासी  
 लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह  
 (ठा ३, ४) ।

अडडग न [अटटाङ्ग] संख्या-विशेष, 'तुडिय'  
 या 'महातुडिय' को चौरासी लाख से गुणने  
 पर जो संख्या लब्ध हो वह (ठा ३, ४) ।  
 अडण न [अटन] भ्रमण, घूमना (ठा ६) ।  
 अडणी स्त्री [दे] मार्ग, रास्ता (दे १ १६) ।  
 अडपल्लण न [दे] वाहन-विशेष (जीव) ।  
 अडयणा } स्त्री [दे] कुलटा, व्यक्तिचरिणी  
 अडया } स्त्री (दे १, १८, पात्र, गा २:४;  
 ६६२, वजा ८६) ।  
 अडयाल न [दे] प्रशसा, तारोफ (परण २) ।  
 अडयाल } स्त्रीन [अष्टचत्वारिंशत] अठ-  
 अडयालीस } तालीस, ४८ की संख्या (जीव  
 ३, सम ७०) । °सय न [°शत] एक सौ  
 और अठतालीस, १४८ (कम्म २, २५) ।  
 अडवडण न [दे] स्वलना, रुक-रुक चलना,  
 'तुरयावि परिस्सता अडवडण काउमारद्ध'  
 (सुपा ६४५) ।  
 अडवि } स्त्री [अटवि, °वी] भयकर जंगल,  
 अडवी } गहरा वन (परह १, १, महा) ।  
 अडसट्टि स्त्री [अष्टपष्टि] अठसठ (पि ४४२) ।  
 °म वि [°तम] अठसठवां (पञ्च ६८, ५१) ।  
 अडड पु [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे  
 १, १९) ।  
 अडिल्ल पुं [अटिल] एक जाति का पक्षी  
 (परण १) ।  
 अडिल्ला स्त्री [अडिल्ला] छन्द-विशेष (पिग) ।  
 अडोल्लिया स्त्री [अटोल्लिका] १ एक गज-  
 पुत्री, जो युवराज की पुत्री और गर्दभराज की  
 बहिन थी । २ मृपिका, चूही (वृह १) ।  
 अडोविय वि [अटोपित] भरा हुआ (परह  
 १, ३) ।  
 अडु वि [दे] जो आडे आता हो बीच मे  
 बाधक होता हो वह; 'सो कोहाडयो अडु  
 आवडियो' (उप १४६ टी) ।  
 अडुक्ख सक [क्षिप्] फेंकना, गिराना ।  
 अडुक्खइ (हे ४, १४३, पड) ।  
 अडुक्खिय वि [क्षिप्त] फेंका हुआ (कुमा) ।  
 अडुण न [अडून] १ चर्म, चमड़ा । २ ढाल,  
 फलक; 'नवमुग्गवरणअडुणडक्खिआजाणुमीय-  
 णसरीरा' (सुर २, ५) ।  
 अडुअ वि [दे] आरोपित (वव १ टी) ।  
 अडुया स्त्री [अडुका] मत्तो की क्रिया-विशेष  
 (विसे ३३५७) ।



अड्ड देखो अड्ड = अघं (हिं २, ४१, चद १०; सुर ६, १२६, महा)।

अड्ड वि [आडथ] १ सपन्न, वैभव-शाली, धनी (पाम्र, जवा)। २ युक्त, सहित (पचा १२)। ३ पूर्ण, परिपूर्ण, 'विद्युणमवि गुणड्ड' (प्रासू ७१)।

अड्डअक्कली स्त्री [दे] देवो अट्टयक्कली (दि १, ४५)।

अड्डत्त वि [आरत्थ] शुल् किया हुआ, प्रारत्थ (से १३, ६)।

अड्डाडज्ज } वि [अर्धत्तीय] ढाई (सम  
अड्डाडय } १०१, सुर १, ४४, भवि, विस  
१४०१)।

अड्डिद्वय वि [कृष्ट] खीचा हुआ (से ५, ७२)।

अड्डुदुदु वि [अर्धचतुर्थ] साढ़े तीन, 'अड्डु-  
दुदु सयाड' (पि ४५०)।

अड्डहेज्ज न [आडथत्त्व] धनीपन, श्रीमंताई  
(ठा १०)।

अड्डहेज्जा स्त्री [आडथेज्या] श्रीमत से किया  
हुआ सत्कार (ठा १०)।

अड्डोस्स पु [अर्धोरुक] जैन साध्वियों के  
पहनने का एक वस्त्र (शोध ३१५)।

अड (अप) देखो अड्ड = अण् (पि ६७, ३०४,  
४४२, ४४५)।

अडाइस (अप) स्त्रीन [अष्टाविंशति] सत्या-  
विशेष, अठाईस, २८ (पि ४४५)।

अडारसग देखो अट्टारसग (पिंड ४०२)।

अडारसम देखो अट्टारसम (भग १८, एया  
१, १८)।

अण अ [अ, अन्] देखो अं (हिं २, १६०,  
मे ११, ६४)।

अण सक [अण्] १ आवाज करना। २ जाना।  
३ जानना। ४ समझना। अणइ (विसे  
= ४४१)।

अण पु [अण] १ अण्ड, आवाज। २ गमन,  
गति (विसे ३४४०)। ३ कपाय, क्रोध आदि  
आन्तर शत्रु (विसे १२८७)। ४ गाली,  
आक्रोश, अभिमान (तदु)। ५ न पाप (पह  
१, १)। ६ कर्म (भावा)। ७ वि कुत्सित,  
खराब (दिने २७६७ टो)।

अण टुं [अण] देखो अणताणुबंधि (कम्म २,  
५, १८, २६)।

अण पु [अणस्] शकट, गाड़ी (वर्म २)।

अण देखो अण्ण = अण्य, 'अणहियमावि  
पिआण' (से ११, १६, २०)।

अण न [अण्ण] १ करना, अण (ह १, १४१)।

२ कर्म (उत्त १)। °धारग वि [°धारक]  
करजदार, अण्णी (एया १, १७)। °वल वि

[°वल] उत्तमणं, लेनदार (पह १, २)।  
°भजग वि [°भजक] देउलिया (पह १, ३)।

°अण देखो गण (से ६, ६६)।

°अण देखो जण, 'अण्ण महिलाअण रमतन्स'  
(गा ४४), 'गुअणपरवस पिअ कि (काम  
६१), 'वासअण्ण' (अच्छु ३२)।

°अण देखो तण (मे ६, ६६)।

°अणअरद देखो अणवरय (नाट)।

अणइवर वि [अनतिवर] जिसे बडकर  
दूसरा न हो, सर्वोत्तम, 'अच्छराओ  
अणइवरसोमचाख्खाओ' (श्रीप)।

अणइवुट्टि स्त्री [अनतिवृष्टि] अवृष्टि, वर्षा का  
अभाव, 'दुम्भक्कडमरदुम्मारिईअड्डवुट्टी अणइ-  
वुट्टी य' (सवोच २)।

अणईइ वि [अनीति] ईति-रहित, शलभादि-  
कृत उपद्रव से रहित 'अणईइपत्ता' (श्रीप)।

अणंग पु [अणङ्ग] १ काम, विषयाभिलाष,  
रमणेच्छा (आ १६, आत्र ६)। २ कामदेव,  
मन्मथ (गा २३३, गउड, कपू)। ३ एक राज-  
कुमार, जो आनन्दपुर के राजा जीतारि का पुत्र  
था (गच्छ २)। ४ न विषय-पेवन के मुख्य  
अणो के आंतरिक स्तन, कुक्षि, मुख आदि अंग  
(ठा ५, २)। ५ वनावटी लिंग आदि (ठा ५,  
२)। ६ वारह अण-ग्रन्थो से भिन्न जैन आत्र  
(दिने ८४४)। ७ वि शरीर-रहित, अण-हीन,  
मृत, 'पहरड कह णु अणगो, कह णु द्व विवति  
कोमुमा बाणा' (गउड), 'पईवमज्जे पडई पयगो,  
ख्खाण्णरतो हवई अणगो' (सत्त ४८)। °धारणी  
स्त्री [°गृहिणी] रति, कामदेव की पत्नी (मुपा  
६६७)। °पडिसेविणी स्त्री [°प्रतिपेविणा]  
अभयार्थित रति से विषय-पेवन करनेवाली स्त्री  
(ठा ५, २)। °पविट्ट न [°प्रविष्ट] वारह  
अण-ग्रन्थो से भिन्न जैन ग्रन्थ (दिने ५२७)।  
°वाण पु [°वाण] काम के वाण (गा  
७४८)। °लवण पु [°लवन] रामचन्द्रजी का

एक पुत्र, लव (पठम ६७, ६)। °सर पुं [°शर]  
काम के वाण (गा १०००)। °सेणा स्त्री  
[°सेना] द्वारका की एक विख्यात गणिका  
(एया १, ५, १६)।

अणत पु [अणन्त] चालू अवसर्पणी काल के  
चौदहवें तीर्थंकर-देव, 'विमलमणत च जिण'  
(पडि)। २ विष्णु, कृष्ण (पठम ५, १२२)।

३ शेष नाग (से ६, ८६)। ४ जिसमें अनन्त  
जीव हों ऐसी वनस्पति, कन्द-मूल वगैरह (शोध  
४१)। ५ न केवल-ज्ञान (एया १, ८)। ६  
आकाश (भग २०, २)। ७ वि नाश-वर्जित,  
शाश्वत (मूअ १, १, ४, पह १, ३)। ८ नि सीम,  
अपरिमित, असन्ध मे भी कहीं अधिक (विसे)।

९ प्रभूत, बहुन, विशेष (प्रासू २६, ठा ४, १)।

°काइय वि [°कायिक] अनन्त जीववाली वन-  
स्पति, कन्द-मूल आदि (धर्म २)। °काय पु

[°काय] कन्द-मूल आदि अनन्त जीववाली  
वनस्पति (पण १)। °खुत्तो अ [°कृत्वस्]  
अनन्त वार (जी ४४)। °जीव पु [°जीव]  
देखो °काइय (पण १)। °जीविय वि

[°जीविक] देवो °काइय (भग ८, ३)। °णाण  
न [°ज्ञान] केवल-ज्ञान (दस २)। °णाणि  
वि [°ज्ञानिन्] केवल-ज्ञानी, सर्वज्ञ (मूअ १,  
६)। °दांसि वि [°दर्शिन्] सर्वज्ञ (पठम ४८,  
१०५)। °पासि वि [°दर्शिन्] ऐरवत क्षेत्र  
के वीसवें जिन-देव (तित्य)। °मिस्सिया स्त्री

[°मिथिका] सत्यमित्र भाषा का एक भेद,  
जैमे अनन्तकाय से भिन्न प्रत्येक वनस्पति मे  
मिली हुई अनन्तकाय को भी अनन्तकाय कहना  
(पण ११)। °मीसय न [°मिथक] देखो  
°मिस्सिया (ठा १०)। °रह पु [°रथ] विख्यात  
राजा दशरथ के बड़े भाई का नाम (पठम २२,  
१०१)। °विजय पुं [°विजय] भरतक्षेत्र के  
२४ वें श्रीर ऐरवत क्षेत्र के वीसवें भावी तीर्थं-  
कर का नाम (सम १५८)। °वीरिय वि

[°वीर्य] १ अनन्त बलवान्ता। २ पु एक  
केवलज्ञानी मुनि का नाम (पठम १४, १५८)।

३ एक ऋषि, जो कार्तवीर्य के पिता थे (प्रासू  
१)। ४ भरतक्षेत्र के एक भावी तीर्थंकर का  
नाम (ती २१)। °ससारिय वि [°ससारिक]  
अनन्त काल तक ससार में जन्म-मरण पाने-  
वाला (उप ३८४)। °सेण पु [°सेन] १ श्रीमा

कुलकर (सम १५०) । २ एक अन्तकृद मुनि (अत ३) ।

अणतइ पुं [अनन्तजित्] चालूकाल के चौदहवें जिन-देव, (पउम ९, १४८) ।

अणतग } १ देखो अणंत (ठा ५, ३) । २ न  
अणतय } वक्र-विशेष (श्रीष ३६) । ३ पु  
ऐरवत क्षेत्र के एक जिनदेव (सम-१५३) ।

अणतय न [अनन्तक] वक्र, कपटा (पव २) ।

अणतर वि [अनन्तर] १ व्यवधान-रहित, अव्य-  
वहित; 'अणतर चय चइत्ता' (णया १, ८) ।

२ पु. वर्तमान समय (ठा १०) । ३ क्रि वि वाद  
में, पोछे (विपा १, १) ।

अणतरहिय वि [अनन्तरहित] १ अव्यवहित,  
व्यवधान-रहित (आचा) । २ सजीव, सचित्त,  
चेतन (निचू ७) ।

अणतसो अ [अनन्तशस्] अनन्त वार (द  
४५) ।

अणताणुवधि पुं [अनन्तानुवन्धिवन्] अनन्त  
काल तक आत्मा को संसार में भ्रमण कराने-  
वाले कपायो की चार चौकड़ियों में प्रथम  
चौकड़ी, अतिप्रचंड क्रोध, मान, माया और लोभ  
(सम १६) ।

अणस वि [अनश] अखण्ड (धर्मस ७०६) ।

अणक्ष पु [दे] १ एक म्लेच्छ देश । २ एक  
म्लेच्छ जाति (परह १, १) ।

अणक्ख पुं [दे] १ रोप, गुस्ता, क्रोव (सुपा  
१३, १३०, ६१०, भवि) । २ लजा (स ३७६) ।

अणक्खर न [अनक्षर] धृत-ज्ञान का एक  
भेद—वर्णों के बिना संपर्क के, छींकना, चुटकी-  
वजाना, सिर हिलाना आदि सकेतो से दूसरे का  
अभिप्राय जानना (एदि) ।

अणगार वि [अनगार] १ जिसने घर-बार  
त्याग किया हो वह, साधु, यति, मुनि (विपा  
१, १, भग १७, ३) । २ घर-रहित, भिक्षुक,  
भोखमंगा (ठा ६) । ३ पु. भरतक्षेत्र के भावी  
पाचवें तीर्थंकर का एक पूर्वभवीय नाम (सम  
१५४) ।

अणुय न [अणुत्] 'सूत्रकृताग' सूत्र का एक अव्य-  
यन (सूत्र २, ५) ।

अणगार वि [अणकार] १ करजा करनेवाला ।  
२ दुष्ट शिष्य, अपात्र (उत् १) ।

अणगार वि [अनाकार] आकृति-शून्य, आकार-  
रहित; 'उवलभन्ववहाराभावओ नाणगार च'  
(विसे ६५) ।

अणगारि पु [अनगारिन्] साधु; यति, मुनि  
(सम ३७) ।

अणगारिय वि [आनगारिक] साधु-सवन्नी,  
मुनि का (विसे २६७३) ।

अणगाल पुं [अकाल] दुर्मिज्ञ, अकाल  
(वृह ३) ।

अणगिण वि [अनग्न] १ जो नंगन हो, वक्रों  
से आच्छादित । २ पु. कल्पवृक्ष की एक जाति,  
जो वक्र देता है (तंदु) ।

अणगघ देखो अनघ (रुप्र १) ।

अणगघ वि [अणगघन्] ऋण-नाशक, कर्म-  
नाशक (दस) ।

अणगघ } वि [अनघ्य] १ अमूल्य, बहुमूल्य,  
अणगघेय } कीमती (आव ४), 'रयणाई  
अणगघेयाइ इति पचप्पयारवणणाइ' (उप  
५६७ टी, स ८०) । २ महान्, गुह्य । ३ उत्तम,  
श्रेष्ठ, 'त भगवत अणह नियसत्तीए अणगघभ-  
त्तीए, सक्कारेमि' (विसे ६५, ७१) ।

अणघ वि [अनघ] शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ (पचव  
४) ।

अणच्छ देखो करिस = कृप् । अणच्छइ (दि  
४, १८७) ।

अणच्छिआर वि [दे] अच्छिन्न, नहीं छेदा  
हुमा (दि १, ४४) ।

अणज्ज वि [अन्याय्य] अयोग्य, जो न्याय-  
युक्त नहीं (परह १, १) ।

अणज्ज वि [अनार्य] आर्य-भिन्न, दुष्ट, खराब,  
पापी (परह १, १, भमि १२३) ।

अणज्जव (अप) ऊपर देखो । खड पुं [खण्ड]  
अनार्य देश, (भवि ३१२, २) ।

अणज्जवसाय पु [अनघ्यवसाय] अव्यक्त  
ज्ञान, अति सामान्य ज्ञान (विसे ६२) ।

अणज्जमाय पुं [अनघ्याय] १ अव्ययन का  
अभाव । २ जिसमें अव्ययन निषिद्ध है वह काल  
(नाट) ।

अणट्ट वि [अनार्त] आतं-ध्यान से रहित,  
'अणट्टा किति पव्वए' (उत् १८, ५०) ।

अणट्ट पु [अनर्थ] १ नुकसान, हानि (णया  
२, ६; उप ६ टी) । २ प्रयोजन का अभाव

(आव ६) । ३ वि निष्कारण, वृथा, निष्फल  
(निचू १, परह २, १) ।

खड पु [खण्ड] निष्कारण हिंसा, बिना ही  
प्रयोजन दूसरे की हानि (सूत्र २, २) ।

अणड पु [दे] जार, उपपत्ति (दे १, १८, पड्) ।

अणड्ड वि [अनर्थ] विभाग-रहित, अखण्ड  
(ठा ३, ३) ।

अणण वि [अनन्य] १ अभिन्न, अग्रयणभूत  
(निचू १) । २ मोक्ष-मार्ग, 'अणणण चरमाणो  
से ण छरणे ण छणावए' (आचा) । ३ असा-  
धारण, अद्वितीय (सुपा १८६, सुर १, ७) ।

अणणु वि [अणुण] असाधारण, अनुपम (उप  
६४८ टी) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को  
सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । अणिसि वि [अणिसिन्] पदार्थ को

अणप्प वि [अनल्प] अत्रिक, बहुत (श्रीप) ।  
 अणप्प पु [अनात्मन] निज मे मिल, आत्मा  
 से परे (पद्य ३७, २०) । °ज्ज वि [°ज्ज]  
 १ निर्वोध, मूर्ख । २ पागल, भूलाविष्ट, पराधीन  
 (निवृ १) । °वसग वि [°वश] परवश,  
 पराधीन (पद्य ३७, २२) ।  
 अणप्प पु [दे] लड्ग, तलवार (दे १,  
 १२) ।  
 अणप्पिय वि [अनपिन] १ नही दिया हुआ ।  
 २ साधारण, सामान्य, अवशिष्ट (ठा १०) ।  
 °णय पु [°णय] सामान्य-ब्राह्मी पक्ष (विने) ।  
 अणभतर वि [अनभन्तर] भीतरी तत्व  
 को नही जाननेवाला, रहस्य-अनभिज्ञ, 'अणभन्त-  
 तरा सु अम्हे मदणमदम्म वुत्ततन्त्स' (अभि  
 ६) ।  
 अणभिग्गह न [अनभिग्रह] 'सर्वे देवा  
 धन्वा' इत्यादि रूप मिय्यात्व का एक भेद  
 (आ ६) ।  
 अणभिग्गहिय न [अनभिग्रहिक] ऊपर  
 देखो (ठा २, १) ।  
 अणभिग्गहिय वि [अनभिग्रहीत] १ कदा-  
 रह-शून्य (आ ६) । २ अस्वीकृत (उत् २८) ।  
 अणभिण्ण } वि [अनभिज्ञ] अज्ञान निर्वोध  
 अणभिन्न } (अभि १७४, नुपा १६८) ।  
 अणभिलप्प वि [अनभिलाप्प] अनिर्वच-  
 नीय, जो वचन में न कहा जा सके (सहस्र  
 ७) ।  
 अणमिस वि [अनिमिप] १ विकसित, खिला  
 हुआ (सुर ३, १४३) । २ नियम-रहित,  
 पलक-वर्जित (सुपा ३५८) ।  
 अणय पु [अनय] अनीति, अन्याय (आ २७,  
 स ५०१) ।  
 अणयार देखो अणगार (पद्य ११, ७) ।  
 अणरण पु [अनरण्य] साकेतपुर का एक  
 राजा जो, पीछे से अरिपि हुआ था (पद्य १०,  
 ८७) ।  
 अणरह } वि [अनर्ह] अयोग्य, नालायक,  
 अणरिह } (कुमा), 'एष दिवर्त्ति अणरिहे,  
 अणरुह } अणरिहते तु इमो होइ' (पचना) ।  
 अणरह स्त्री [दे] नवोढा, दुलहन (पड्) ।  
 अणरामय पु [दे] अरति, वैचैनी (दे १  
 ४५, भवि) ।

अणराय वि [अराजक] गज-शून्य जिमें  
 राजा न हो वह (बृह १) ।  
 अणराह पु [दे] निर मे पहनी जाती रंग-  
 विरगी पट्टी (दे १, २४) ।  
 अणरिक्क वि [दे] अवकाश-रहित, फुसत-  
 रहित (दे १, २०) । २ दधि, क्षीर आदि  
 गोरन भोज्य (निवृ १६) ।  
 अणरिह } वि [अनर्ह] अयोग्य, नालायक  
 अणरुह } (णया १, १) ।  
 अणल अ [अनलम्] असमर्थ (आवा २,  
 ५, १, ७) ।  
 अणल पु [अनल] १ अग्नि, आग (कुमा) ।  
 २ वि असमर्थ । ३ अयोग्य, 'अणलो अपच्च-  
 लोत्ति य होति अणो गो व एण्ढा' (निवृ ११) ।  
 अणव वि [ऋणवन्] १ करजदार । पु  
 दिवस का छत्तीसवाँ मुहूर्त (चद) ।  
 अणवकय वि [अनपकृत] जिसका अपकार  
 न किया गया हो वह (उव) ।  
 अणवगल्ल वि [अनवगल्लान] ग्लानि-रहित,  
 निरोध;  
 'सद्वृत्त अणवगल्लत्त, निवृत्तिकद्वृत्त, जनुण  
 एो कमासनीत्तामे एत्त पाणुत्ति वुच्चइ' (ठा २,  
 ४) ।  
 अणवच्च वि [अनपत्य] सन्तान-रहित; निर्वाण  
 (नुपा २५६) ।  
 अणवच्च न [अनवद्य] १ पाप का अभाव,  
 कर्म का अभाव (सूय १, १ २) । २ वि  
 निर्दोष, निष्पाप (पड्) ।  
 अणवच्च वि [अणवच्च्य] ऊपर देखो  
 (विसे) ।  
 अणवट्टप्प वि [अनवस्थाप्य] १ जिसको  
 फिरसे दीक्षा न दी जा सके ऐसा गुरु अपराध  
 करनेवाला (बृह ४) । २ न गुरु प्रायश्चित्त का  
 एक भेद (ठा २, ४) ।  
 अणवट्टिय वि [अनवस्थित] १ अव्यवस्थित,  
 अनियमित (प्रासू १३७; सुर ४, ७६) । २  
 चंचल, अस्थिर, 'अणवट्टिय च चित्त' (सुर  
 १०, १३८) । ३ पत्य-विशेष, नाप-विशेष  
 (कम्म ४, ७३) ।  
 अणवण्णिय पु [अणपण्णिक, अणपण्णिक]  
 वानव्यतर देवों की एक जाति (परह १, ४,  
 मग १०, २) ।

अणवत्य वि [अनवस्थ] अव्यवस्थित, अनि-  
 यमित असमजन (दे १, १३६) ।  
 अणवत्या स्त्री [अनवस्था] १ अवस्था का  
 अभाव (उव) । २ एक तर्क-दोष (विसे) ।  
 ३ अव्यवस्था, 'जणणी जायइ जाया, जाया  
 माया पिया य पुतो य । अणवत्या ससाणे,  
 कम्मवत्ता सच्चजीवाण' (पिवे १०७) ।  
 अणवट्ठग वि [दे] १ अनन्त, अपरिमित,  
 निस्सीम (मग १, १) । २ अत्रिनाशी (सूय  
 २, ५) ।  
 अणवट्ठ वि [अनवद्य] निष्पाप, निर्दोष, शुद्ध  
 (प्राक २१) ।  
 अणवण्णिय देखो अणवण्णिय (श्रीप) ।  
 अणवयग्ग देखो अणवट्ठग (सम १२५, परह  
 १, ३, प्राप) ।  
 अणवयमाण वक्क [अनपवदत्त] १ अप-  
 वाद नही करता हुआ । २ सत्यवादी (वव  
 ३) ।  
 अणवरय वि [अनवरत] १ सतत, निरन्तर,  
 अविच्छिन्न । २ न सदा, हमेशा (गा २८०  
 ६) ।  
 अणवराइस (अप) वि [अनन्याहस] असा-  
 धारण, अद्वितीय (कुमा) ।  
 अणवसर वि [अनवसर] आकस्मिक अचि-  
 न्चित्त (पाद्य) ।  
 अणवाह वि [अवाध] बाधा-रहित, निर्वाच  
 (सुपा २६८) ।  
 अणवेक्खिय वि [अनपेक्षित] उपेक्षित,  
 जिमकी परवाह न हो ।  
 अणवेक्खिय वि [अनवेक्षित] १ नही  
 देखा हुआ । २ अविचारित, नहीं सोचा हुआ ।  
 °कारि वि [°कारिन] साहसिक । °कारिया  
 स्त्री [°कारिता] साहस कर्म (उप ७६८ टी) ।  
 अणसण न [अनशन] आहार का त्याग, उ-  
 वास (सम ११६) ।  
 अणसिय वि [अनशित] उपोषित, उपवासी  
 (आवम) ।  
 अणह वि [अनय] निर्दोष, पवित्र (श्रीप; गा  
 २७२, ने ६, ३) ।  
 अणह वि [दे] अज्ञत, क्षति-रहित, अण-  
 शून्य (दे १, १३; सुपा ६, ३३, सण) ।

अणह न [अनभस्] भूमि, पृथिवी (से ६, ३)।  
 अणहप्पणय वि [दे] ग्रन्थ, विद्यमान (दे १, ४८)।  
 अणहवगय वि [दे] तिरस्कृत, भ्रमित (पड)।  
 अणहा स्त्री [अधुना] इन समय (प्राक् ८०)।  
 अणहारय पुं [दे] बल्ल, खला, जिसका मध्य-नीचा हो वह जमीन (दे १, ३८)।  
 अणहिअअ वि [अहृदय] हृदय-रहित, निष्ठुर, निर्दय (प्राप, ना ४१)।  
 अणहिगय वि [अनधिगत] ? नहीं जाना हुआ। २ पु वह साधु, जिसको गात्रों का ज्ञान न हो, श्रगीतार्यं (वव १)।  
 अणहिण्ण देखो अणभिण्ण (प्राप)।  
 अणहियास वि [अनध्यास] असहिष्णु, महन नहीं करनेवाला (उव)।  
 अणहिलि न [अगहिल्लि] उजरात देव की अणहिल्लि प्राचीन राजधानी, जो ब्राह्मण 'पाटन' नाम से प्रसिद्ध है (ती २६, कुमा)।  
 वाडय न [पाटक] देखो अगहिल्लि (उ १०, मुण्णि १०८८८)।  
 अणहीणवि [अनधीन] स्वतन्त्र, अनायत्त (संग १६१)।  
 अणहुल्लिय वि [दे] जिसका फल प्राप्त न हुआ हो वह (सम्मत्त १४३)।  
 अणाइ वि [अनादि] आदि-रहित, नित्य (मम १२५)।  
 णिहण, निहण वि [निधन] अत्यन्त-वञ्जित, शाश्वत (उव, मम्म ६५, भाव ४)।  
 मत्, वत् वि [मत्] अनादि काल से प्रवृत्त (पउम ११८, ३२, भवि)।  
 अणाइज्ज वि [अनादेय] ? अनुपादेय, ग्रहण करने के अयोग्य। २ नाम-कर्म का एक भेद, जिसके उदय ने जीव का वचन, युक्त होने पर भी प्राण नहीं समझा जाता है (कम्म १, २७)।  
 अणाइय वि [अनादिक] आदि-रहित, नित्य (मम १२५)।  
 अगाडय वि [अज्ञातिक] स्वजन-रहित, अकेला (मग १, १)।  
 अणाइय वि [अणातीत] पापो, पापिष्ठ (मग १, १)।

अगाइय पु [अणातीत] संनार, दुनिया (मग १, १)।  
 अणाइय वि [अनादत्त] जिनका आदर न किया गया हो वह (उप ८३३ टी)।  
 अणाइल वि [अनाविल] ? अकल्पित, निर्मल (परह २, १)।  
 अणाईअ देखो अगाइय (उप १०३१ टी, पि ७०)।  
 अगाउ पु [अनायुक्] ? जिन-देव (सूत्र अणाउय १, ६)। २ मुक्तात्मा, मिद्ध (ठा १)।  
 अगाउल वि [अनाकुल] अश्याकुल, धीर (मम १, २, २, गाय १, ८)।  
 अणाउत्त वि [अनायुक्त] उपयोग-शून्य, बे-ह्याल, अनावधान (श्रीप)।  
 अणाएज्ज देखो अगाइज्ज (मम १५६)।  
 अणागय पुं [अनागत] ? भविष्य काल, 'अणागयमपसत्ता, पच्चुप्पतगवेसगा।  
 ते पच्छा परितप्पति, स्त्रीणे आउम्मि जोवरो' (सूत्र १, ३, ५)। २ वि भविष्य मे होनेवाला (सूत्र १, २)।  
 डा स्त्री [डा] भविष्य काल (वव ४२)।  
 अणागलिय वि [अनर्गलित] नहीं रोका हुआ (उवा)।  
 अणागलिय वि [अनारलित] ? नहीं जाना हुआ, भ्रान्तित (गाया १, ६)। २ अपरिमित, 'अणागनियत्तिवचडरोस मप्परुव विउव्वइ' (उवा)।  
 अणागार वि [अनाकार] ? आकार-रहित, आकृति-शून्य (ठा १०)। २ विशेषता-रहित (कम्म ५, १२)। ३ न दर्शन, सामान्य ज्ञान (मम ६५)।  
 अणाजीव वि [अनाजीव] ? आजीविका-रहित। २ आजीविका की इच्छा नहीं रखने-वाला। ३ नि-स्थिर, निरीह (दम ३)।  
 अणाजीवि वि [अनाजीविन्] ऊपर देखो, 'अगिलाई अणाजीवी' (पडि, निचू १)।  
 अणाड पु [दे] जार, उपपत्ति (दे १, १८)।  
 अणाडिय वि [अनादत्त] ? जिसका आदर न किया गया हो वह, तिरस्कृत (भाव ३)। २ पु जम्बूद्वीप का अधिष्ठायक एक देव (ठा २, ३)।

३ स्त्री. जम्बूद्वीप के अधिष्ठायक देव की राज-धानी (जीव ३)।  
 अणाणुगामिय वि [अनानुगामिक] ? पीछे नहीं जानेवाला (ठा ५, १)। २ न अवि-ज्ञान का एक भेद (एदि)।  
 अणादि देखो अगाइ (म ६८३)।  
 अणादिय ? देखो अणाइय (इक, परह १, १, अणादीय ? ठा ३, १)।  
 अणादेज्ज देखो अगाइज्ज (परह १, ३)।  
 अगाभिग्गह न [अनाभिग्रह] मिथ्यात्व का एक भेद (पच ५, २)।  
 अगाभोग पु [अनाभोग] ? अनुपयोग, बे-ह्याली, असावधानी (भाव ४)। २ न मिथ्यात्व-विशेष (कम्म ४, ५१)।  
 अणामिय वि [अनामिक] ? नाम-रहित। २ पु अमाव्य रोग (तदु)। ३ स्त्री, कनिष्ठागुली के ऊपर की श्रुली।  
 अणाय वि [अज्ञात] नहीं जाना हुआ, अपरि-चित (पउम २४, १७)।  
 अणाय पु [अनाक] मर्त्यलोक, मनुष्य-लोक (से १, १)।  
 अणाय पु [अनात्मन्] आत्म-भिन्न, आत्मा से पते (मम १)।  
 अणायग वि [अनायक] नायक-रहित (पउम ५६, ७०)।  
 अणायग वि [अज्ञातक] स्वजन-रहित, अकेला (निचू ६)।  
 अणायग वि [अज्ञायक] अज्ञान, निर्बोध (निचू ११)।  
 अणायत्तण ? न [अनायत्तण] ? वेरया आदि अणाययण ? नीच लोगों का घर (दस ५, १)।  
 ? जहाँ सज्जन पुरुषों का समागम न होता हो वह स्थान (परह २, ४)। ३ पतित साधुओं का स्थान (भाव ३)। ४ पशु, नपुंसक वगैरह के समागमस्थान (श्रीघ ७६३)।  
 अणायत्त वि [अनायत्त] - पराधीन (पउम २६, २६)।  
 अणायर पु [अनादर] अ-बहुमान, अपमान (पात्र)।  
 अणायरण न [अनाचरण] अनाचार, खराब आचरण।

अणायरणया स्त्री [अनाचरण] ऊपर देखो (सम ७१) ।

अणायरिय देखो अणज्ज = अनार्यं (पणह १, १, पउम १५ ३०) ।

अणायार देखो अणगार = घनाकार (विसे) ।  
अणायार पु [अनाचार] १ शास्त्र-निषिद्ध  
आचरण (न १८८) । २ गृहीत नियमों का  
जान-बूझ कर उल्लंघन करना, घन-भङ्ग  
(वव १) ।

अणारिय देखो अणज्ज = अनार्यं (उवा) ।

अणारिस वि [अनार्ष] जो ऋषि-प्रणीत न  
हो वह (पउम ११, ८०) ।

अणारिस वि [अन्यादृश] दूसरे के जैसा  
(नाट) ।

अणालत्त वि [अनालपित] अनुक्त, अकथित,  
नहीं बुलाया हुआ (उवा) ।

अणालवय पु [अनालपक] मौन, नहीं बोलना  
(पाप्र) ।

अणावक मक [आ + नायय्] मगवाना, अणा-  
वेमि (सिरि ६४६) ।

अणावरण वि [अनावरण] १ आवरण-रहित ।  
२ न केवल-ज्ञान (सम्म ७१) ।

अणाविअ वि [आनायित] मगवाया हुआ  
(सिरि ६६, ७१८) ।

अणाविट्ठि स्त्री [अनावृष्टि] वर्षों का अभाव  
अणावुट्ठि } (पउम २०, ८७, नम ६०) ।

अणाविल वि [अनाविल] १ निर्मल, स्वच्छ  
(गउड) ।

अणाससि वि [अनाशसिन्] अनिच्छु, निस्पृह  
(वृह १) ।

अणासण वेत्तो अणसण (सूत्र १, २, १, १४) ।

अणासय पु [अनाश, °क] अनशन, भोजना-  
भाव, 'खारस्स लोणस्स अणासएण' (सूत्र १,  
७, १३) ।

अणासव वि [अनाश्रव] १ आश्रव-रहित । २  
पुं आश्रव का अभाव, सवर । ३ अहिंसा, दया  
(पणह २, १) ।

अणासिय वि [अनशित] भूखा (सूत्र १,  
५, २) ।

अणाह वि [अनाथ] २ शरण-रहित (निवृ  
३) । २ स्वामि-रहित, मालिक-रहित । ३ रंक,

गरीब, बेचारा (गाया १, ८) । ४ पु एक  
जैन मुनि (उत्त २०) ।

अणाहार पुं [अनाहार] एक दिन का उवास  
(सवोच ५८) ।

अणाहि } वि [अनाधि, °क] मानसिक  
अगाहिय } पीडा में रहित (मे ३, ५४, पि  
३६५) ।

अणाहिट्ठि पु [अनाधृष्टि] एक अन्तर्हृद मुनि  
(अन्त ३) ।

अणिइण देखो अगगिण (विचार २२) ।

अणिइय वि [अनियत] १ अनियमित, अच्य-  
वस्थित । २ पु ससार (मग ६, ३३) ।

अणिउच्चि वि [अनिकुञ्चित] टेढ़ा नहीं  
किया हुआ, सरल (गउड) ।

अणिउँत | देखो अइमुत्त (दे ५, ३८, हे  
अणिउँतय | १, १७८, कुमा) ।  
अणिउँतय |

अणिएय वि [अनियत] अनियमित, अप्रति-  
बद्ध, 'अखिले अणिद्वे अणिएयचारो, अणयकरो  
भिक्षू अणायविलप्पा' (सूत्र १, ७, २८) ।

अणिदिय वि [अनिन्दित] १ जिसकी निन्दा  
न की गई हो वह, उत्तम (धर्म १) । २ पु  
किन्नर देव की एक जाति (पणह १) ।

अणिदिय वि [अनिन्दिय] १ इन्द्रिय-रहित ।  
२ पु मुक्त जीव । ३ केवलज्ञानी (ठा १०) ।  
४ वि अतीन्द्रिय, जो इन्द्रियों से जाना न जा  
सके, 'नय विव्वइ तग्गहणे लिगपि अणिदियत्त-  
णामो' (सुर १२, ४८, स १६८, विमे १८६२) ।

अणिदिया स्त्री [अनिन्दिता] ऊर्ध्वं लोक में  
रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८) ।

अणिक वि [अनेक] एक से ज्यादा (नव ४३) ।  
°वाड वि [°वादिन्] अक्रियावादी (ठा ८) ।

अणिक्किणी स्त्री [अनीकिनी] ऐसी सेना जिसमें  
२१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१ घोड़े और  
१०६३५ प्यादें हों (पउम ५६, ६) ।

अणिक्विखत्त वि [अनिच्छिप्त] नहीं छोड़ा  
हुआ, अपरित्यक्त, अविच्छिन्न, 'अणिक्विखत्तेणं  
तवोकम्मएण सज्जेणं तवसा अण्यारणं-भावेमारो  
विहरइ' (उवा, श्रौप) ।

अणिगण } देखो अणगिण (जीव ३, सम  
अणिगिण } १७) ।

अणिगह वि [अनिग्रह] स्वच्छन्द, प्रसंयत  
(पणह १, २) ।

अणिश वि [अनित्य] नश्वर, अस्थायी (नव  
२४, प्रासू ६५) । °भावणा स्त्री [°भावना]  
नानार्थिक पदार्थों की अस्तित्वना या चिन्तन  
(पव ६७) । °णुप्पेहा स्त्री [°णुप्पेहा]  
देवी पूर्वोक्त अर्थ (ठा ४, १) ।

अणिट्ठि वि [अनिष्ट] अप्रोत्तिवर, ड्रेप्य (उव) ।  
अणिट्ठिय वि [अनिष्टित] असंपूर्ण (गउड) ।  
अणिण देवो अणिरिण (नाट) ।

अणिदा स्त्री [दि अनिदा] १ बिना स्थान  
किये की गई हिमा (मग १६, ५) । २ चित्त  
की विकलता । ३ ज्ञान का अभाव (मग १, २) ।  
अणिमा पुत्री [अणिमन्] आठ निद्रियों  
में एक सिद्धि, अत्यन्त छोटा वन जाने की  
शक्ति (पउम ७, १३६) ।

अणिमिस न [अनिमिप] फल-विशेष (दस  
५, १, ७३) ।

अणिमिस } वि [अनिमिप, °मिप] १ निमेष  
अणिमेस } शून्य (सुर ३, १७३) । २ पुं  
मत्स्य, मछली (दस ५, १) । ३ देव, देवता  
(वव १, आ १६) । °नयण पुं [नयन] देव,  
देवता (विसे ३४८६) ।

अणिय न [अनीक] सैन्य, नश्वर (कण्) ।  
अणिय न [अनृत] असत्य, झूठ (ठा १०) ।  
अणिय न [दि] धार, अग्र-भान (पणह २, २) ।  
अणिय वि [अनित्य] अस्थिर, अनित्य (उर) ।  
अणियट्ठ पु [अनिवर्त] १ मोक्ष, मुक्ति (आचा  
१, ५, १) । २ एक महाप्रह (ठा २, ३) ।

अणियट्ठि वि [अनिवर्तिन्] १ निवृत्त नहीं  
होनेवाला, पीछे नहीं लौटनेवाला (श्रौप) । २  
न शुक्र-ध्यान का एक भेद (ठा ४, १) । ३ पुं.  
एक महाप्रह (चद २०) । ४ आगामी उत्सर्पणी  
काल में होनेवाले एक तीर्थंकर देव का नाम  
(सम १०४) ।

अणियट्ठि वि [अनिवृत्ति] १ निवृत्ति-रहित,  
व्यावृत्ति-वर्जित (कर्म २, २) । २ नववां गुरा-  
स्थानक (कर्म २) । °करण न [°करण]  
आत्मा का विशुद्ध परिणाम-विशेष (आचा) ।  
°वादर न [°वादर] १ नववां गुरा-स्थानक । २  
नववें गुरा-स्थानक में प्रवृत्त जीव (आव ४) ।  
अणियण देखो अणगिण (जीव ३) ।

अणियय वि [अनियत] १ अन्वयन्वित, अनियमित (उव) । २ कल्पवृक्ष की एक जाति, जो वृक्ष देती है (ठा १०) ।

अणिया देवो अणिया (पिंड) ।

अणिया स्त्री [दे] धार, अन्न-भाग, युजराती में 'अणो', 'सखाणियाइ पइया' (धर्मवि १७) ।

अणिरिक्क वि [दे] परतन्त्र, पनावीन । (काप्र ५२ गा २६१) ।

अणिरिण वि [अनृण] अण-वर्जित, उच्छ्रण, अनृणो (अभि ४६, चान ६६) ।

अणिरुद्ध वि [अनिरुद्ध] १ अप्रतिहत, नहीं रोका हुआ । (सूत्र १, १२) । २ एक अन्त-कृद् मुनि (अन्त १) ।

अणिल पु [अनिल] १ वायु, पवन (कुमा) । २ एक अतीत तीर्थंकर का नाम (तित्य) । ३ राजन्न-वशीय एक राजा (पल्ल ०, २६४) । अणिला स्त्री [अनिला] वाईषवं तीर्थंकर की एक शिष्या (पव ६) ।

अणिल्ल न [दे] प्रमात, सवेरा (दे १, १६) ।

अणिस न [अनिग] निरुत्तर, सदा, हमेशा (गा २६२, प्रासू २६) ।

अणिसट्ट वि [अनिसट्ट] १ अनिश्चित । अणिसिट्ट २ असमत, अनुज्ञात । ३ ऐसी भिक्षा, जिनके मालिक अनेक हों और जो सब की अनुमति से ली न गई हो, माधु की भिक्षा का एक दोष (पिंड; औप) ।

अणिसोह वि [अनिशीथ] गाल-विशेष, जो प्रकाश में पड़ा या पड़ाया जाय (आवप) ।

अणिससकड वि [अनिशीकृत] जिन पर भिक्षा प्राप्त व्यक्ति का अधिकार न हो, सर्व-साधारण (धर्म २) ।

अणिससा स्त्री [अनिश्रा] अनासक्ति, आसक्ति का अभाव (उव) ।

अणिसिसय वि [अनिश्रित] १ अनामक, आसक्तिरहित (सूत्र १, १६) । २ प्रतिबन्ध-रहित, स्थावदरहित (वस १) । ३ अनाश्रित, किमी के साहाय्य की इच्छा न रखनेवाला (उत्त १६) । ४ न. ज्ञान-विशेष, अवरह-ज्ञान का एक भेद, जो निग या पुस्तक के बिना ही होता है (ठा ६) ।

अणिह वि [अनीह] १ घोर, नहिण्यु (सूत्र ५

१, २, २) । २ निष्कपट, सरल (सूत्र १, ८) । ३ निर्मम, निःस्पृह (आचा) ।

अणिह वि [अस्तिह] स्पृह-रहित (सूत्र १, २, २, ३०) ।

अणिह वि [दे] १ महरा, तुल्य । २ न सुख, मुंह (दे १, ४१) ।

अणिहय वि [अनिहत] अहत नहीं मारा हुआ । ० रिट्ट पु [रिपु] एक अन्तकृद् मुनि (अन्त ३) ।

अणीइम वि [अनीइश] इस माफिक नहीं, विनम्रण (स ३०७) ।

अणीय न [अनीक] सेना, लश्कर (श्रीप) ।

अणीयस पु [अनीयस] एक अन्तकृद् मुनि का नाम (अन्त ३) ।

अणीस वि [अनीश] असमर्थ (अभि ६०) ।

अणीसकड देवो अणिससकड (धर्म २) ।

अणीहारिम वि [अनिहारिम] उफा आदि में होनेवाला मरण-विशेष (भग १३, ८) ।

अणु अ [अनु] यह अव्यय नाम और धातु के साथ लगता है और नीचे के अर्थों में ने किसी एक को बतलाता है, १ समीप, नजदीक; 'अणुकुडल' (गडड) । २ लघु, छोटा, 'अणुगाम' (उत्त ३) । ३ क्रम, परिपाटी, 'अणुगुर' (वृह १) । ४ में, भीतर 'अणुजत्त' (महा) । ५ लक्ष्य करना, 'अणु जिणं अकारि संगीय इत्थोहि' (कुमा), 'अणु धार सदद्वेभमोत्तिण तुह असिम्मि सच्चविया' (गडड) । ६ योग्य, उचित, 'अणुजुत्ति' (सूत्र १, ४, १) । ७ बीप्सा, 'अणुदिण' (कुमा) । ८ बीच का भाग, 'अणुदिमी' (पि ४१३) । ९ अनुकूल, हितकर, 'अणुवम्म' (सूत्र १, २, १) । १० प्रतिनिधि, 'अणुप्पमु' (निद्ध २) । ११ पीछे, बाद, 'अणुमज्जण' (गडड) । १२ बहुत, अत्यंत, 'अणुवक' (मा ६२) । १३ मदद करना सहायता करना, 'अणुपरिहारि' (ठा ३, ४) । १४ निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है, देखो 'अणुकम', 'अणुसरिस' ।

अणु अ [अणु] १ थोड़ा, अल्प (परह २, ३) । २ छोटा (आचा) । ३ पु परमाणु (सम्म १३६) । ४ मय वि [मत] उत्तम कुल, श्रेष्ठ वंश (कप्प) । ५ विरइ स्त्री [विरत्ति] देवो देसविरइ (कम्म १, १८) ।

अणु पु [दे] धान-विशेष, चावल की एक जाति (दे १, ५) ।

अणु स्त्री [तनु] शरीर, 'अणु' (गा २६६) । अणुअ देखो अणु = अणु (पाम्म) ।

अणुअ वि [अज] अज्ञान, मूर्ख (गा १८४, ३४५) ।

अणुअ पु [दे] १ आकृति, आकार । २ पुली धान्य-विशेष (दे १, ५२, आ १८) ।

अणुअ वि [अनुग] अनुसरण करनेवाला, 'अवम्मणुए' (विपा १, १) ।

अणुअ वि [अनुज] १ पीछे में उत्पन्न । २ पु छोटा माई । ३ स्त्री छोटी बहिन (अभि ८२, पल्ल २८, १००) ।

अणुअच सक [अनु + कृप्] पीछे खीचना । सक अणुअचिवि (भवि) ।

अणुअप सक [अनु + कम्प्] दया करना । क अणुअपणिज्ज (हास्य १४४) ।

अणुअंपा स्त्री [अनुकम्पा] दया, कल्याण (नि ९, २४, गा १६३) ।

अणुअपि वि [अनुकम्पिन्] दयालु, कल्याण करनेवाला (अभि १७३) ।

अणुअत्तय वि [अनुवर्त्तक] अनुकूल आचरण करनेवाला, अनुसरण करनेवाला (वित्ते ३४०२) ।

अणुअत्ति देखो अणुवत्ति (पुष्प ३२६) ।

अणुअर वि [अनुचर] १ सहायताकारी, सहचर (पाम्म) । २ सेवक, नौकर (प्रामा) ।

अणुअर वि [अनुचर] अनुसरण-कर्ता (हास्य १२१) ।

अणुअल्ल न [दे] प्रमात, सुबह (दे १, १६) ।

अणुआ स्त्री [दे] लाठी (दे १, ५२) ।

अणुआर पु [अनुकार] अनुकरण (नाट) ।

अणुआरि वि [अनुकारिन्] अनुकरण करनेवाला (नाट) ।

अणुआस पु [अनुकास] प्रसार, विकास (गाया १, १) ।

अणुइअ पु [दे] धान्य-विशेष, चना (दे १, २१) ।

अणुइअ देवो अणुदिय ।

अणुइण्ण वि [अनुकीर्ण] १ व्याप्त, भरा हुआ । २ नहीं गिरा हुआ, अपवित्त; 'अवाइण्णपत्ता अणुइण्णपत्ता निद्धु यजरठपडुपत्ता (श्रीप) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] वाहर नहीं निवना  
हुआ (श्रीप) ।

अणुवर्णना देखो अणुवर्णना ।

अणुवर्णना देखो अणुवर्णना ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] अणुवर्णना, अणुवर्णना  
(गा ५०३) ।

अणुवर्णना चक्र [अनुवर्णना] अणुवर्णना करना ।  
नवि अणुवर्णना (पि ५२८) ।

अणुवर्णना पु [अनुवर्णना] १ व्याख्या, टीका,  
नूतन का विचार न अर्थ-प्रतिपादन (श्रीप २) ।  
२ पृच्छा प्रश्न (अभि ४४) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] प्रवर्णित, प्रवृत्त  
करना हुआ (एदि) ।

अणुवर्णना देखा अणुवर्णना (विने ६) ।

अणुवर्णना पु [अनुवर्णना] सम्बन्ध (पु १७) ।

अणुवर्णना पु [अनुवर्णना] नूतन का व्या-  
ख्याता आचार्य, 'अणुवर्णना लोकार्णव न ससय-  
रानयो दह होइ' (पचव ८) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] दक्षित, मुनि-  
शिष्य (एदि) ।

अणुवर्णना न [अनुवर्णना] सवन्धन, जोहना  
(विने १३८०) ।

अणुवर्णना सक [अनु + कम्प] १ दया करना ।  
२ भक्ति करना । ३ हित करना । वहु अणु-  
वर्णना (नाट) । ४ अणुवर्णना, अणु-  
वर्णना (अभि ६४, खण १५) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] अणुवर्णना के योग  
दि १, २०) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना, क] १ दया, अणुवर्णना  
अणुवर्णना कल्याण । २ भक्ति, भक्तिमान् (वत  
१२), 'हिमालयकपण देवेण हरिणगमेसिणा'  
(कप) । ३ हितकर, 'आवाणुकपण एणाममेणे,  
नो पराणुकपण' (ठा ४, ४) ।

अणुवर्णना न [अनुवर्णना] १ दया, कृपा (वव  
३) । २ भक्ति, सेवा, 'माहअणुकपणद्वारे'  
(कप) ।

अणुवर्णना स्त्री [अनुवर्णना] ऊपर देखो (शाया  
१, १), 'आचार्यसुकपाए गच्छो अणुकपिणो  
महामाणो' (कप-टी) । 'दाण न [दान]  
करणा से गरीबों को अन्न आदि देना, 'अणु-  
कपादाए सडयाए न कहिपि पडिसिद'  
(वमं २) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] १ दया, अणुवर्णना  
(मान ७) । २ भक्ति करनेवाला (सुप्र  
१, ३, २) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] जिस पर अणु-  
वर्णना की गई हो वह (नाट) ।

अणुवर्णना नव [अनु + कम्प] १ नीचना ।  
२ अणुवर्णना करना । वहु अणुवर्णना, अणुवर्णना  
(विना १, १, एदि) ।

अणुवर्णना स्त्री [अनुवर्णना] अणुवर्णना, अणु-  
वर्णना (पच १) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] अणुवर्णना, अणुवर्णना  
(न १२०) ।

अणुवर्णना पु [अनुवर्णना] १ बड़े पुरुषों के मार्ग  
का अणुवर्णना । २ वि महापुरुषों का अणुवर्णना  
करनेवाला, 'एणवर्णनाएण पुव्यावरियाए  
अणुवर्णना कुण्ड, अणुवर्णना एणवर्णना, अणु-  
वर्णना न विवाराहि' (पचना) ।

अणुवर्णना पु [अनुवर्णना] परिवादी, क्रम (महा) ।  
'सो अ [शस्] क्रम से, परिवादी ने  
(जी २८) ।

अणुवर्णना सक [अनु + कृ] अणुवर्णना करना,  
नकल करना । अणुवर्णना (स ४३६) ।

अणुवर्णना न [अनुवर्णना] नकल (वव ३) ।

अणुवर्णना सक [अनु + कथय] अणुवर्णना करना,  
पीछे बोलना ।

अणुवर्णना न [अनुवर्णना] अणुवर्णना (नूप्र १,  
१३) ।

अणुवर्णना पु [अनुवर्णना] अणुवर्णना, नकल  
(कप) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] अणुवर्णना करने-  
वाला, 'किन्नराणुवर्णना महुरोएण' (महा) ।

अणुवर्णना स्त्री [अनुवर्णना] अणुवर्णना, नकल,  
पुस्त्यावरियाए नाल गहणेण य तनोविहाणेणु  
य अणुवर्णना करेइ' (पच) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] व्याप्त, भरा हुआ  
(पचम ६१, ७) ।

अणुवर्णना न [अनुवर्णना] वर्णन, प्रशंसा,  
श्लाघा (पचम ६३, ७३) ।

अणुवर्णना देखो अणुवर्णना (पचना) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] १ पीछे फेंका  
हुआ । २ ऊंचा किया हुआ (निचू ८) ।

अणुवर्णना वि [अनु + कृ] अणुवर्णना करना ।  
अणुवर्णना (वि १२६) ।

अणुवर्णना देखो अणुवर्णना (दि २, २१७) ।

अणुवर्णना न [अनुवर्णना] अणुवर्णना करना,  
प्रमत्त करना: 'न कहइ । तम्ममे जिदुमुणो  
तथितणुवर्णना' (मुवा २३४) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] अणुवर्णना-कार, 'मुहपिरजोगाणुवर्णना मणिवर्णना' (नबोध ०) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] आचरित, अणु-  
वर्णना (प्राचा) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] आचरित, विहित,  
अणुवर्णना, 'एस विही अणुवर्णना माहणेणु मड-  
नया (पचना) ।

अणुवर्णना न [अनु + क्रम] क्रम से कहना ।  
नवि अणुवर्णना (जीमन ?) ।

अणुवर्णना सक [अनु + क्रम] अणुवर्णना  
करना । वहु अणुवर्णना (नूप्र १, ५, १,  
७) ।

अणुवर्णना देखो अणुवर्णना (महा, नव १६) ।

अणुवर्णना न [अनुवर्णना] गमन, गति,  
(नूप्र १, ५, २, २१) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] छोटा अणुवर्णना  
(पव ६२) ।

अणुवर्णना पु [अनुवर्णना] दया, कर्णना  
(ठा ४, ४) ।

अणुवर्णना पु [अनुवर्णना] १ अणुवर्णना का  
अभाव । २ वि २ अणुवर्णना (नमा ८,  
१०) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] ऊंचा न किया  
हुआ, 'दिदु वणुवर्णना एणो मणो कुन-  
वर्णना' (गा ५०६) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] अणुवर्णना, नौकर (दि ७,  
६६) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] अणुवर्णना-कर्ता (गच्छ  
३, ३१) ।

अणुवर्णना देखो अणुवर्णना = अणु + गम् ।

अणुवर्णना स्त्री [अनुवर्णना] कल्याण, दया (न  
१४८) ।

अणुवर्णना वि [अनुवर्णना] जिस पर  
कल्याण की गई हो वह (स ४७५) ।

अणुवर्णना देखो अणुवर्णना = अणु + गम् । अणु-  
वर्णना वहु अणुवर्णना, अणुवर्णना

(नाटः सूत्र १, १४) । कवक अणुगच्छिज्जत (रागा १, २) । सक्र. अणुगच्छिता (कप्) ।  
 अणुगच्छग देखो अणुगमग (पुष्प ४०८) ।  
 अणुगच्छिर वि [अनुगामिन] अनुसरण करनेवाला (सण) ।  
 अणुगज्ज अक्र [अनु + गर्ज] प्रतिध्वनि करना, प्रतिशब्द करना । वक्र अणुगज्जे-माण (रागा १, १८) ।  
 अणुगम नक [अनु + गम्] १ अनुसरण करना, पीछे-पीछे जाना । २ जानना, सम-भना । ३ व्याख्या करना, सूत्र के अर्थों का स्पष्टीकरण करना । कर्म अणुगम्मड (विने ६१३) । वक्र अणुगम्मंत, अणुगम्मसाण (उप ६ टी सुपा ७८, २०८) । सक्र अणुगम्म (सूत्र १, १४) । क्र अणुगतव्व (सुर ७, १७६, पण १) ।  
 अणुगम पुं [अनुगम] १ अनुसरण, अनुवर्तन (दि २, ६१) । २ जानना, ठीक-ठीक समझना, निश्चय करना (ठा १) । ३ सूत्र की व्याख्या, सूत्र के अर्थों का स्पष्टीकरण (वव १) । ४ अन्वय, एक की सत्ता में दूसरे की विद्यमानता (विने २६०) । ५ व्याख्या, टीका (विने १३ ५७), अणुगम्मइ तेण तहिं, तसो व अणुगम-णमेव वाणुगमो । 'अणुणोणुख्वओ वा, जं सुत्तत्थाणमणुसरण' (विने ६१३) ।  
 अणुगमण न [अनुगमन] ऊपर देखो ।  
 अणुगमिअ वि [अनुगत] अनुसृत (कुप्र ४३) ।  
 अणुगमिर वि [अनुगन्त्] अनुसरण करने-वाला (दि ६, १२७) ।  
 अणुगय वि [अनुगत] १ अनुसृत, जिसका अनुसरण किया गया हो वह (पण १, ४) । २ ज्ञात, जाना हुआ (विने) । ३ अनुसृत, जो पूर्व से बराबर चला आया हो (पण १, ३) । ४ अतिक्रान्त (विने ६५६) ।  
 अणुगर देखो अणुकर । अणुगरेइ (स ३३४) । वक्र अणुगरित (स ६८) ।  
 अणुगरण देखो अणुकरण (कुप्र १७६) ।  
 अणुगवेस सक्र [अनु + गवेप्] खोजना, खोजना, तलाश करना । अणुगवेसइ (कस) ।

वक्र अणुगवेसेमाण (मग ८, ५) । क्र अणुगवेमियव्व (कस) ।  
 अणुगह देखो अणुगह = अनु + ग्रह (नाट) ।  
 अणुगहिअ देखो अणुगिहिअ (दि ८, २६) ।  
 अणुगाम पुं [अणुग्राम] १ छोटा गाँव, (उत्त ३) । २ उपपुर, शहर के पाम का गाँव (ठा ५, २) । ३ विवक्षित गाँव से दूसरा गाँव, 'गामाणुगाम दुइव्वमाणे' (विपा १, १; औप; श्राचा) ।  
 अणुगामि } वि [अनुगामिन्, 'मिक]  
 अणुगामिय } १ अनुसरण करनेवाला, पीछे-पीछे जानेवाला (औप) । २ निर्दोष हेतु, शुद्ध कारण (ठा ३, ३) । ३ अवविज्ञान का एक भेद (कम्म १, ८) । ४ अनुचर, सेवक (सूत्र १, २, ३) ।  
 अणुगारि वि [अनुकारिन्] अनुकरण करनेवाला, नकालची (महा; धर्म ५, स ६३०) ।  
 अणुगिइ ली [अनुकृति] अनुकरण, नकल (श्रा १) ।  
 अणुगिण्ह देखो अणुगह = अनु + ग्रह । वक्र अणुगिण्हमाण, अणुगिण्हमाण (निर १, १; रागा १, १६) ।  
 अणुगिद्ध वि [अनुगृद्ध] अत्यन्त आसक्त, लोलुप (सूत्र १, ७) ।  
 अणुगिद्धि ली [अनुगृद्धि] अत्यासक्ति (उत्त ३२) ।  
 अणुगिल सक्र [अनु + गृ] भक्षण करना । सट्र अणुगिलित्ता (रागा १, ७) ।  
 अणुगिहीअ वि [अनुगृहीत] जिस पर मेहरवानी की गई हो वह (स १४, १६३) ।  
 अणुगीय वि [अनुगीत] १ पीछे कहा हुआ, अनूदित । २ पूर्व ग्रन्थकार के भाव के अनुकूल किया हुआ ग्रन्थ, व्याख्यान आदि (उत्त १३) । ३ जिसका गान किया गया हो वह, कीर्तित, वर्णित । ४ न. गाना, गीत, 'उज्जाणे मत्त-मिगाणुणोए' (पत्तम ३३, १४८) ।  
 अणुगुण वि [अनुगुण] १ अनुकूल, उचित, योग्य (नाट) । २ तुल्य, सदृश गुणवाला, जाण मल्लंकारसमो, विहवो मइलेइ तेवि वड्ढंती ।

विच्छाएइ मियंक, तुसार-  
 -वरिसो अणुगुणेवि' (गडड) ।  
 अणुगुरु वि [अनुगुरु] गुरु-परम्परा के अनु-मार जिम त्रिपय का व्यवहार होता हो वह (वृह १) ।  
 अणुगूल वि [अनुकूल] अनुकूल (स ३७८) ।  
 अणुगेज्ज वि [अनुग्राह्य] अनुग्रह के योग्य, कृपा-पात्र (प्राप) ।  
 अणुगेण्ह देखो अणुगह = अनु + ग्रह । अणुगेण्हत्तु (वि ५१२) ।  
 अणुगह सक्र [अनु + ग्रह] कृपा करना, मेहरवानी करना । क्र अणुगहइइव्व, अणु-ग्राहिइव्व (श्री) (नाट) ।  
 अणुगह पु [अनुग्रह] १ कृपा, मेहरवानी (कप्प) । २ उपकार (औप) । ३ वि जिस पर अनुग्रह किया जाय वह (वव १) ।  
 अणुगह पु [अनुग्रह] जैन साधुओं को रहने के लिए शास्त्र-निषिद्ध स्थान, 'एो गोयरे एो वणुणोणियाण, एो वद्ध दुज्जंति य जत्थ गावो । अणुणत्थ गोणेहिणु जत्थ खुण्ण, स जग्गहो सेसमणुगहो तु' (वृह ३) ।  
 अणुगहिअ } वि [अनुगृहीत] जिस पर  
 अणुगहीअ } कृपा की गई हो वह, आभारी  
 अणुगिहीअ } (महा; सुपा १६२, स ६७) ।  
 अणुगघाइम न [अनुद्धातिम] १ महा-प्राय-श्चित का एक भेद (ठा ३, ४) । २ वि. महा-प्रायश्चित का पात्र (ठा ३, ४) ।  
 अणुगघाइय वि [अनुद्धातिक] १ अनुद्धातिक नामक महा प्रायश्चित का पात्र (ठा ५, ३) । २ न. ग्रन्थाश-विशेष, जिसमें अनुद्धातिक प्रायश्चित का वर्णन है (पण २, ५) ।  
 अणुगघाय वि [अनुद्धात] १ उद्धात-रहित । २ न. निशीय सूत्र का वह भाग, जिसमें अनु-द्धातिक प्रायश्चित का विचार है, 'उग्घायम-णुगघाय आरोवण तिविहमो निसीहं तु' (भाव ३) ।  
 अणुगघाय न [अनुद्धात] गुरु-प्रायश्चित (वव १) ।  
 अणुगघायण न [अणोद्धातन] कर्मों का नाश (श्राचा) ।



अणुगवास सक [ अनु + वासय् ] लीलाना, भोजन कराना, 'असण वा पाणं वा चाडम वा नाडम वा अणुगघामेज वा अणुपाएद वा' (निनी ७) । वक्र अणुगघासत (निचू ७) ।

अणुचय पु [ अनुचय ] फेलाकर डकड़ा करना (च पृ १५) ।

अणुचर सक [ अनु + चर् ] १ सेवा करना । २ पीछे-पीछे जाना, अनुसरण करना । ३ अनुष्ठान करना । अणुचरड (आरा ९) । अणुचरति (स १३०) । कर्म अणुचरिजड् । (विने २५५५) । वक्र अणुचरत (पुष्प ३१३) सक अणुचरिता (चड १४) ।

अणुचर देखो अणुअर (जत २८) ।

अणुचरग वि [ अनुचरक ] सेवा करनेवाला (पत्र ६६) ।

अणुचरिय वि [ अनुचरित ] अनुष्ठान, विहित, किया हुआ (कप्य) ।

अणुचि सक [ अनु + च्य ] मरना, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना । सक्र अणुचि-उण (महा) ।

अणुचित सक [ अनु + चिन्त् ] विचारना, याद करना, सोचना । अणुचिते (सधा ६६) । वक्र अणुचितेमाण (णाय १, १) । सक्र अणुचीड, अणुचीति, अणुचीइ (आचा, सूत्र १, १, ३, १३, दस ७) ।

अणुचितण न [ अनुचिन्तन ] सोच-विचार, पर्यालोचन (आव ४) ।

अणुचिता स्त्री [ अनुचिन्ता ] ऊपर देखो (आव ४) ।

अणुचिट्ट सक [ अनु + रथा ] १ अनुष्ठान करना । २ करना । अणुचिट्टइ । (महा) ।

अणुचिण वि [ अनुचीर्ण ] १ अनुष्ठित, आच-गित, विहित, 'मोहतिगिच्छा य कथा, विरिया-चारो य अणुचिणो' (शोध २४६) । २ प्राप्त, मिना हुआ, 'कावमफालमणुचिणया एगइया पाणा उट्टाइया' (आचा) । ३ परिणमित (जीव १) ।

अणुचिणव वि [ अनुचीर्णवन ] जिनसे अनुष्ठान किया हो वह (आचा) ।

अणुचिन्न देखो अणुचिणग (मुपा ६६२, रयण ७५, पुष्प ७५) ।

अणुचिय वि [ अनुचित ] अयोग्य (वृह १) । अणुचीड } देखो अणुचित । अणुचीति }

अणुच वि [ अनुच ] ऊंचा नहीं, नीचा । 'कुडय वि [ अनुचिक ] नीची और घम्विर शय्या वाला (कप्य) ।

अणुच्छहत वि [ अनुत्सहमान ] उसाह नहीं रखना हुआ (पठम १८, १८) ।

अणुच्छत्त वि [ अनुच्छिन्न ] नहीं टोटा हुआ, अच्यक्त (गड २३८) ।

अणुच्छत्त वि [ अनुत्थित ] १ गर्व-रहित, विनीत । २ स्फीत, समृद्ध । ३ मत्र में उत्पन्न, सर्वोच्च, 'पदिबद्ध नवर तुमे, नरिदचक पयाव-वियउपि । तहवनयमणुच्छत्ते धुवेव्व, परियतइ एरिद' (गड ३) ।

अणुच्छट्ट वि [ अनुच्छिन्न ] अत्यक्त, नहीं छोटा हुआ (ग ५२६) ।

अणुज पुं [ अनुज ] छोटा नाई (स ३८८) ।

अणुजत्त न [ अनुयात्र ] यात्रा में, 'अरणया अणुजत्त निग्गमो पेच्छइ कुमुमिय चूय' (महा) ।

अणुजत्ता स्त्री [ अनुयात्रा ] निर्गम, नि सरण (पिड ८८) ।

अणुजा नक [ अनु + या ] अनुसरण करना, पीछे चलना । अणुजाइ (विने ७१६) ।

अणुजाइ वि [ अनुयायिन् ] अनुसरण करने-वाला (मुपा ४०५) ।

अणुजाइ स्त्री [ अनुयाति ] अनुसरण (वर्म-वि ४६) ।

अणुजाण न [ अनुयान ] १ पीछे-पीछे चलना । २ महोत्सव-विशेष, रथयात्रा (वृह १) ।

अणुजाण सक [ अनु + ज्ञा ] अनुमति देना, सम्मति देना । अणुजाणइ (उव) । नून. अणुजाणिया (पि ५१७) । हेह. अणुजा गित्तए (ठा २, १) ।

अणुजाण न [ अनुजान ] अनुमति, सम्मति (सूत्र १, ९) ।

अणुजाणावण न [ अनुज्ञापन ] अनुमति लेना, 'अणुजाणावणविहरिणा' (पचा ६, १३) ।

अणुजाणिय वि [ अनुजात ] सम्मत, अनुमत (मुपा ५८४) ।

अणुजाय वि [ अनुयात ] १ अनुगत, अनुसृत (च १३७ दो) ।

अणुजाय वि [ अनुजात ] १ पीछे में उत्पन्न । २ महारा, तुल्य, 'वसमाणुजाए' (सुज १२) ।

अणुजीव सक [ अनु + जीव् ] आश्रय करना । अणुजीवति (उत् १८, १४) ।

अणुजीवि वि [ अनुजीविन् ] १ आश्रित, नौकर, नेवक, 'पयइए धिय अणुजीविचट्ठे' (मुपा ३३७, पात्र, स २४३) । २ 'त्तण न [ र ] आश्रय, नौकरी (पि ५६७) ।

अणुजुंज सक [ अनु + युज् ] प्रश्न करना । कर्म अणुजुंजते (वर्मस २९३) ।

अणुजुत्ति स्त्री [ अनुयुक्ति ] योग्यवृत्ति, उचित न्याय (सूत्र १, ३, ३) ।

अणुजेट्ट वि [ अनुजेट्ट ] १ बड़े के नज़दीक का (आवम) । २ छोटा, उत्तरना (पठम २२, ७६) ।

अणुजोग देखो अणुओअ (ठा १-०) ।

अणुज वि [ अनूर्ज ] उत्साह-रहित, अनुत्साही, हताश (कप्य) ।

अणुज वि [ अनोजस्क ] तेजरहित, फीका, 'अणुजं दीणवयणं विहरइ' (कप्य) ।

अणुज वि [ अनूर्ज ] उद्वेग, लक्ष्य (वर्म १) ।

अणुजा स्त्री [ अनुज्ञा ] अनुमति, सम्मति (पठम ३८, २४) ।

अणुजा देखो अणोजा (आचा २, १५, ३) ।

अणुजिय वि [ अनूर्जित ] वन-रहित, निर्बल (वृह ३) ।

अणुजुय वि [ अनूर्जुक ] असरल, बक्र, कपटी (गा ७८६) ।

अणुज्जा सक [ अनु + ध्या ] चिन्तन करना, ध्यान करना । सक्र अणुज्जाइत्ता (आवम) ।

अणुज्जाण न [ अनुज्यान ] चिन्तन, विचार (आवम) ।

अणुज्जा देखो अणुज्जा । वक्र अणुज्जात्त (कुमा) ।

अणुज्जिअ वि [ ज ] १ प्रवत, प्रय न-जील । २ जागता, सावधान (पड्) ।

अणुज्जिअ वि [ अनुजयिन् ] क्षीण होने-वाला (वजा १, २) ।

अणुद्रा वि [ अनुत्थ ] नहीं उठा हुआ, न्यित (शोध ७०) ।

अणुद्रा सक [ अनु + स्था ] १ अनुष्ठान करना, शास्त्रोक्त विधान करना । २ करना । क्र अणु-

द्विचञ्च, अणुद्देअ (मुपा ५३७, नुर १४, ८५) ।

अणुद्वाइ वि [अनुष्टायिन] अनुष्ठान करने-  
वाला (श्राचा) ।

अणुद्वाण न [अनुष्ठान] १ कृति । २ गान्धोक्त  
विधान (श्राचा) ।

अणुद्वाग न [अनुष्ठान] क्रिया का अभाव  
(उवा) ।

अणुद्वावण न [अनुष्ठान] अनुष्ठान कराना  
(कम) ।

अणुद्विवि वि [अनुष्ठित] विवि मे सपादिन,  
विहित, किया हुआ (पइ, नुर ४, १६६) ।

अणुद्विवि वि [अनुत्थित] १ वैठ हुआ । २  
श्राचनी, प्रमादी (श्राचा) ।

अणुद्विविच देवो अणुद्वा ।

अणुद्विभ न [अनुद्विभ] एक प्रसिद्ध छंद,  
'पञ्चस्वरगणराण्ये अणुद्विभमाणे हवन्ति दम  
सहन्त्या (मुपा ६५६) ।

अणुद्विअ देवो अणुद्वा

अणुण देवो अणुणी । अणुणह (भवि) ।

अणुणत देवो अणुणी ।

अणुणय पु [अनुणय] विनय, प्रार्थना (महा,  
अभि ११९) ।

अणुणाइ वि [अनुणादिन्] प्रतिव्वनि करने  
वाला, 'गन्धियसहन्स अणुणाइणा' (कपा) ।

अणुणाय पु [अनुणाद] प्रतिव्वनि, प्रतिशन्द  
(विसे ३५०८) ।

अणुणाय वि [अनुणात] अनुमत, अनुमोदित  
(पच) ।

अणुणास पुन [अनुणास] अनुनासिक, जो  
नाक से बोला जाता है वह अक्षर । २ वि  
सानुन्वार, अनुन्वार-युक्त (ठा ७), 'कागस्सर-  
मणुणास च' (जीव ३ टी) ।

अणुणासिअ पुं [अनुनासिक] देवो ऊपर का  
पहला अर्थ (उवा ६) ।

अणुणी सक [अनु + नी] १ अनुनय करना,  
विनय करना, प्रार्थना करना । २ समकाना,  
दिनासा देना, सान्त्वना देना । वक्क अणुणत,  
'पुरोहिंयं त कमसोणुणत' (उत्त १४, भवि),  
अणुणत (गा ६०२) । कवक्क अणुणिज्जत,  
अणुणिज्जमाण, अणुणीअमाण (मुपा ३६७,  
से २, १६, पि ५३६) ।

अणुणीअ वि [अनुनीत] जिसका अनुनय  
किया गया हो वह (दे ८, ४८) ।

अणुणेत देवो अणुणी ।

अणुणय वि [अनुणत] १ नीचा, नम्र (दस  
५, १) । २ गवरहित, निरभिमानो: 'एत्यवि  
भिक्खू अणुणयण विणीण' (सूअ १, १६) ।

अणुणय नक [अनु + ज्ञापय] १ अनु-  
मति देना । २ आज्ञा देना, हकूम देना । कर्म  
अणुणयविजइ (उवा) । वक्क अणुणयवेमाण  
(ठा ६) । क अणुणयवेयण (शोध ३८५  
टी) । संक्क अणुणयवित्ता, अणुणयविय  
(श्रावम, श्राचा २, २, ६) ।

अणुणयवणया } स्त्री [अनुज्ञापना] १ अनु-  
अणुणयवणया } मति, सम्मति । २ आज्ञा,  
परमाइश (सम ४८, शोध ३८८ टी) ।

अणुणयगी स्त्री [अनुज्ञापनी] अनुमति-प्रका-  
शक भाषा, अनुमति लेने का वाक्य (ठा ४, ३) ।

अणुणया स्त्री [अनुज्ञा] १ अनुमति, अनुमोदन  
(सूअ २, २) । २ आज्ञा । कप्प पु [अल्प]  
जैन साधुओं के लिए वक्क-यात्रादि लेने के विषय  
में शास्त्रीय विधान (चमा) ।

अणुणया स्त्री [अनुज्ञा] १ पठन-विषयक  
गुरु-आज्ञा-विशेष (अणु ३) । २ सूत्र के अर्थ का  
अध्ययन (वव १) ।

अणुणयय वि [अनुज्ञात] १ जिसको आज्ञा  
दी गई हो वह । २ अनुमत, अनुमोदित (ठा  
३, ४) ।

अणुणइ वि [अनुण] ठंडा, जो गरम नहीं है  
वह (पि ३१२) ।

अणुणतइ पु [अनुतइ] भेद, पदार्थ का एक  
जाति का पृथक्करण, जैसे मतस लोहे को  
हथौड़े से पीटने में स्फुलिंग (चिनगारी) पृथक्  
होते हैं (ठा ५) ।

अणुणतडिया स्त्री [अनुतटिका] १ ऊपर देवो  
(परण ११) । २ तलाव, द्रह आदि का भेद  
(भास ७) ।

अणुणतप्प अक् [अनु + तप्] अनुपात करना,  
पछताना । अणुणतप्पइ (म १८८) ।

अणुणतप्पि वि [अनुतापिन] पश्चात्ताप करने-  
वाला (वव) ।

अणुताव सक [अनु + तापय] तपाना ।  
संक्क अणुतावित्ता (सूअ २, ४, १०) ।

अणुताव पुं [अनुताप] पश्चात्ताप (पाअ, स  
१८४) ।

अणुतावय वि [अनुतापक] पश्चात्ताप कराने-  
वाला (सूअ २, ७, ८) ।

अणुतावि देवो अणुणतप्पि (उप ७२८ टी) ।

अणुत्त वि [अनुत्त] अकथित (पच ५) ।

अणुत्तत देवो अणुवत्त ।

अणुत्तत्प वि [अनुत्तत्प] १ परिपूर्ण शरीर ।  
२ पूर्ण शरीरवाला, 'होइ अणुत्तत्पो सो अवि-  
गलइदियपडिपुणो' (वव २) ।

अणुत्तर वि [अनुत्तर] १ सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम  
(ठा १०) । २ एक सर्वोत्तम देवलोक का  
नाम (अनु) । ३ छोटा, 'अणुत्तरो नामा'  
(पचम ६, ४) । ४ ग्गा स्त्री [अप्रथा] एक

पृथिवी, जहां मुक्त जीवों का निवास है (सूअ  
१, ६) । ५ णाणि वि [अज्ञानिन्] केवलज्ञानी  
(सूअ १, २, ३) । ६ विमाण न [विमान]  
एक सर्वोत्कृष्ट देवलोक (भग ६, ६) । ७ विवाइय  
वि [विपातिक] अनुत्तर देवलोक में  
उत्पन्न (अनु) । ८ विवाइयवसा स्त्री व  
[विपातिकशा] नववां जैन अग-अय  
(अनु) ।

अणुत्तर देवो अणुत्तण (म ६४६) ।

अणुत्तारय वि [अनुत्साह] हतोत्साह, निराश  
(कुमा) ।

अणुदत्त पु [अनुदात्त] नीचे में बोला जाने-  
वाला स्वर (वृह १) ।

अणुदय पु [अनुदय] १ उदय का अभाव ।  
२ कर्म-फल के अनुभव का अभाव (कम्म २,  
१३, १४, १५) ।

अणुदवि न [दे] प्रमात, नुवह (दे १, १६) ।

अणुदिअ वि [अनुदित] जिसका उदय न  
हुआ हो (भग) ।

अणुदिअम न [अनुदिवस] प्रतिदिन, हमेशा  
(नाट) ।

अणुदिज्जत वि [अनुदीयमान] उदय में न  
धाता हुआ (भग) ।

अणुदिण न [अनुदिण] प्रतिदिन, हमेशा  
(कुमा) ।

अणुदिण वि [अनुदित] १ उदय को  
अणुदिण वि अणुता । २ फल-दान में अतत्पर

(कर्म) (भाग १, २, ३), 'उदिएण = उदित' (भाग १, ४, ७ टी)।

अणुदिण्ण } व [अनुदीरित] १ जिसकी  
अणुदिण्ण } उदीरणा दूर भविष्य में हो।  
२ जिसकी उदीरणा भविष्य में न हो (भाग १, ३)।

अणुदिय वि [अनुदित] उदय को अप्राप्त 'मिच्छतं उमुदिल त खीण अणुदिय च उवनन' (भाग १ ३ टी)।

अणुदियह न [अनुदिवस] प्रतिदिन, हमेशा (नुर १, ११५)।

अणुदिव न [दि] प्रमान, प्रात काल (पड्)।  
अणुदिमा } लो [अनुदिक्] विदिक्,  
अणुदिसी } ज्ञान कोण आदि विदिशा (विसे २०० टी, पि ६८, ४१३, कप्प)।

अणुदिट्ट वि [अनुदित्ठ] जिसका उद्देश्य न किया गया हो वह (परह २, १)।

अणुद्ध वि [अनुद्ध] ऊँचा नहीं, नीचा (कुमा)।

अणुद्धय वि [अनुद्धत] सरल, भद्र, विनयी (उप ७६८ टी)।

अणुद्धरि पु [अनुद्धरिन्] एक क्षुद्र जन्तु, कुयु (कप्प)।

अणुद्धिय वि [अनुद्धृत] १ जिसका उद्धार न किया गया हो वह । २ बाहर नहीं निकाला हुआ, 'ज कुणइ भावसन्त अणुद्धिय इत्य सन्वदुहमूल' (आ ८०)।

अणुद्धयु वि [अनुद्धृत] अपरित्यक्त, नहीं छोड़ा हुआ (कप्प)।

अणुधम्म पु [अणुधर्म] गृहस्थधर्म (विसे)।

अणुधम्म पुं [अणुधर्म] अनुकूल—हितकर धर्म: 'एसोणुधम्मो मुणिएणा पवेइया' (सूत्र १, २, १)। 'चारि वि [चारिन्] हितकर धर्म का अनुयायी, जैन-धर्मी (सूत्र १, २, २)।

अणुधम्मिय वि [अनुधार्मिक] धर्म के अनुकूल, धर्मोचित, 'एवं तु अणुधम्मियं तत्स' (आचा)।

अणुधाव सक [अनु + धाव्] पीछे दौटना। वहु अणुधावत्त (से ४, २१)।

अणुधावण सक [अनुधावन] पीछे दौटना (सुपा ५०२)।

अणुधाविर वि [अनुधाविर] पीछे दौड़ने-वाला (उप ७२८ टी)।

अणुनाइ वि [अनुनादिन्] प्रतिव्वानि करने-वाला (कप्प)।

अणुनाय वि [अनुजात] अनुमत, जिनको अनुमति दी गई हो वह, 'आहवणे मोक्कलय अणुनायाए तए नाह' (सुपा ४७७)।

अणुनाम देवो अणुगास (जीव ३ टी)।

अणुन्नव देवो अणुण्णव । वहु अणुन्नवेमाण (ठा ५, ३)। वहु अणुन्नवेयञ्च (कस)। चंहु अणुन्नवेत्ता (कस)।

अणुन्नवगा देवो अणुण्णवणा (शोध ६३०, कस)।

अणुन्नवणी देवो अणुण्णवणी (ठा ४, १)।

अणुन्ना देवो अणुण्णा (नुर ४, १३३, प्रासू १८१)।

अणुन्नाय देवो अणुण्णाय (शोध १, महा)।

अणुपथ पृ [अनुपथ] १ समीप का मार्ग (कस)। २ मार्ग के समीप, रास्ता के पास (वह २)।

अणुपत्त वि [अनुप्राप्त] प्राप्त, मिला हुआ (नुर ४, २११)।

अणुपन्न वि [अनुपन्न] प्राप्त (कुप्र ४०१)।

अणुपयट्ट वि [अनुपयत्त] अनुसृत, अनुत्त (महा)।

अणुपयाण न [अनुप्रदान] दान का बदला प्रतिग्रहण (सवोध ३४)।

अणुपरियट्ट सक [अनुपरि + अट्] घूमना, परिभ्रमण करना। चंहु अणुपरियट्टित्ताण, 'द्वे ए मते महिड्डिए, " पभू लवणस-मुद्दं अणुपरियट्टित्ताण हव्वमाणच्छित्तए ?' (भाग १८, ७)। वहु अणुपरियट्टियन्व (शाया १, ६)। हेहु अणुपरियट्टेच्च (शाया १, ६)।

अणुपरियट्ट भक्क [अनुपरि + वृत्] फिरना, फिरते रहना: 'डुक्काएमेव आवट्ट अणुपरियट्ट' (आचा)। वहु अणुपरियट्टमाण आचा)। चंहु अणुपरियट्टित्ता (श्रीव)।

अणुपरियट्टण न [अनुपर्यटन] परिभ्रमण (सूत्र १, १, २)।

अणुपरियट्टण न [अनुपरिवर्तन] परिवर्तन, फिरना (भाग १, ६)।

अणुपरियट्ट देवो अणुपरियट्ट = अनुपरि + वृत् । वहु अणुपरियट्टमाण (पि २८६)।

अणुपरिवाहि, ंडी लो [अनुपरिपाटि, ंटी] अनुक्रम (से १५, ६६, पत्तम २०, ११, ३२, १६)।

अणुपरिहारि वि [अणुपरिहारिन्] 'परि-हारो' को मदद करनेवाला, त्यागी मुनि की सेवा-शुभूपा करनेवाला (ठा ३, ४)।

अणुपरिहारि वि [अनुपरिहारिन्] ऊपर देवो (ठा ३, ४)।

अणुपवन्न वि [अनुप्रपन्न] प्राप्त (सूत्र २, ३, २१)।

अणुपवाएत्तु वि [अनुप्रवाचयित्ठ] पढ़ाने-वाला, पाठक, उपाध्याय (ठा ५, २)।

अणुपवाय देवो अणुप्पवाय = अनुप्र + वाचय् ।

अणुपविट्ट वि [अनुप्रविट्ट] पीछे से प्रविष्ट (शाया १, १, कप्प)।

अणुपविस सक [अनुप्र + विश्] १ पीछे से प्रवेश करना। २ प्रवेश करना, भीतर जाना। अणुपविसड (कप्प)। वहु अणुपविसत (निवू २)। सहु अणुपविसित्ता (कप्प)।

अणुपवेस पु [अनुप्रवेश] प्रवेश, भीतर जाना। (निवू ७)।

अणुपस्म सक [अनु + दृश्] पर्यालोचन करना, विवेचना करना। चंहु अणुपस्सिय (सूत्र १, २, २)।

अणुपस्सि वि [अनुदर्शिन्] पर्यालोचक, विवेचक (आचा)।

अणुपाल सक [अनु + पालय्] १ अनुभव करना। २ रक्षण करना। ३ प्रतीक्षा करना, राह देखना। अणुपालेइ (महा), वहु, 'साया-सोक्कम् अणुपालेण' (पक्खि); अणुपालित, अणुपालेमाण (महा)। चंहु अणुपालेऊण, अणुपालित्ता, अणुपालिय (महा, कप्प, पि ५७०)।

अणुपालण न [अनुपालन] रक्षण, प्रति-पालन (पंचमा)।

अणुपालणा देवो अणुपालणा (विसे २५२० टी)।

अणुपालिय वि [अनुपालित] रक्षित, प्रति-  
पालित (ठा ८) ।  
अणुपास देखो अणुपस्स । वक्क. अणुपासमाण  
(दमकू २) ।  
अणुपिद्ध न [अनुपिष्ट] अनुक्रम, 'अणुपिद्ध-  
निदाइ' (सम्म) ।  
अणुपिहा देखो अणुपेहा (द्रव्य ३५) ।  
अणुपुख न [अनुपुह] मूल तक, अन्त-पर्यन्त;  
'अणुपुंखमावडतावि भावया तस्स जसवा हृति'  
(कूप ३३) ।  
अणुपुव्व वि [अनुपूर्व] क्रमवार, आनुक्रमिक  
(ठा ४, ४) । क्रि. क्रमरा (पात्र) । 'सो  
[शस्] अनुक्रम मे (आत्रा) ।  
अणुपुव्व न [अनुपूर्व्य] क्रम, परिपाटी, अनु-  
क्रम (राय) ।  
अणुपुव्वी स्त्री [आनुपूर्वी] ऊपर देखो (पात्र) ।  
अणुपेक्खा स्त्री [अनुप्रेक्षा] भावना, चिन्तन,  
विचार (पउम १४, ७७) ।  
अणुपेहण न [अनुप्रेक्षण] ऊपर देखो (उप  
१४२ टी) ।  
अणुपेहा स्त्री [अनुप्रेक्षा] ऊपर देखो (पि  
३२३) ।  
अणुपेहि वि [अनुप्रेक्षिन्] चिन्तन-वर्ता  
(सूत्र १, १०, ७) ।  
अणुपेइन्न वि [अनुप्रेकीर्ण] एक दूसरे से  
मिना हुआ, मिश्रित (कप्प) ।  
अणुपणी सक [अनुप्र+णी] १ प्रणय  
करना । २ प्रसन्न करना । वक्क. अणुपणत  
(उप ४ २८) ।  
अणुपण्णंथ [अनुप्रणन्थ] मन्तोपी, मत्स्य परि-  
ग्रह वाला (ठा ६) ।  
अणुपण्णंथ वि [अनुप्रणन्थ] ऊपर देखो  
(ठा ६) ।  
अणुपण्णं वि [अनुत्पन्न] अविद्यमान (नीकू  
५) ।  
अणुपत्त देखो अणुपत्त (कप्प) ।  
अणुपदा सक [अनुप्र+दा] दान देना, फिर-  
फिर देना । अणुपदेइ (कम) । कू. अणुप-  
दायव्व (कस) । हेकू. अणुपदाउं (उवा) ।  
अणुपदाण न [अनुप्रदान] दान, फिर-फिर  
दान देना (भाव ६) ।

अणुप्पसु पु [अनुप्रसु] स्वामी के स्वानापन्न,  
प्रतिनिधि (निक्कू २) ।  
अणुप्पया देखो अणुप्पदा । अणुप्पण्ड (कम) ।  
हेकू. अणुप्पयाउं (उवा) ।  
अणुप्पयाण देखो अणुप्पदाण (आत्रा) ।  
अणुप्पवत्त सक [अनुप्र+वृत्] अनुसरण  
करना । हेकू. अणुप्पवत्तए (विसे २२०७) ।  
अणुप्पवाइत्तु } वि [अनुप्रवाचयित्] }  
अणुप्पवाएत्तु } अच्चापक, पाठक, पढानेवाला  
(ठा ५, १, गच्छ १) ।  
अणुप्पवाद पु [अनुप्रवाद] वयन (सूम २,  
७, १३) ।  
अणुप्पवाय सक [अनुप्र+वाचय्] पढाना ।  
वक्क. अणुप्पवाएमाण (ज ३) ।  
अणुप्पवाय न [अनुप्रवाद] नववां पूर्व, वार-  
हवं जैन श्रंग-ग्रन्थ का एक अंश-विशेष (ठा ६) ।  
अणुप्पविद्ध देखो अणुपविद्ध (कम) ।  
अणुप्पवित्ति स्त्री [अनुप्रवृत्ति] अनुप्रवेश,  
अनुगम (विमे २१६०) ।  
अणुप्पविस देखो अणुपविस । अणुप्पविसइ  
(उवा) । संकू. अणुप्पवेसेत्ता (निक्कू १) ।  
अणुप्पवेस देखो अणुपवेस (नाट) ।  
अणुप्पवेसण न [अनुप्रवेशन] देखो अणुप-  
वेस (नाट) ।  
अणुप्पसाद (शौ) सक [अनुप्र+सादय्] प्र-  
मत्त करना । अणुप्पसादेदि (नाट) ।  
अणुप्पसूय वि [अनुप्रसूत] उत्पन्न, पैदा  
किया हुआ (आत्रा) ।  
अणुप्पाइ वि [अनुपातिन्] युक्त, संबद्ध,  
संबन्धी (निक्कू १) ।  
अणुप्पिय वि [अनुप्रिय] अनुकूल, इष्ट (सूम  
१, ७) ।  
अणुप्पेत वि [अनुत्प्रयत्] दूर करता,  
हटाता हुआ,  
जम्मि भविसरणहिययत्तणेण ते  
गारव वलग्गति ।  
त विसममणुप्पेतो गम्भाण विही खलो होइ'  
(गउह) ।  
अणुप्पेच्छ देखो अणुप्पेह,  
'तह पुक्विं कि न कय, न वाहए  
जेण मे समत्थोवि ।  
एण्हिं कि कस्स व कुप्पिमोत्ति धीरा ।  
अणुप्पेच्छ' (उवा) ।

अणुप्पेसिय वि [अनुप्रेषित] पीछे से भेजा  
हुआ (नाट) ।  
अणुप्पेह सक [अनुप्र+ईत्] चिन्तन करना,  
विचारना अणुप्पेहति (पि ३२३) । कू. अणु-  
प्पेहियव्व (पसू १) ।  
अणुप्पेहा स्त्री [अनुप्रेक्षा] चिन्तन, भावना,  
विचार, स्वाध्याय-विशेष (उत्त २९) ।  
अणुप्पास पु [अनुत्पर्ण] अनुभाव, प्रभाव,  
'लोहस्सेव अणुप्पासो मन्ने अन्नयरामवि'  
(दस ६) ।  
अणुप्फसिय वि [अनुप्रोक्षिन्न] पोछा हुआ,  
साफ किया हुआ (म ३४४) ।  
अणुवध सक [अनु+वन्ध्] १ अनुसरण  
करना । २ सबन्ध बनाये रखना । अणुवधति  
(उत्तर ७१) । वक्क. अणुवधत (विणी १८३) ।  
कवकू. अणुवधीअमाण, अणुवधिज्जमाण  
(नाट) । हेकू. अणुवधिट्टु (शौ) (मा ६) ।  
अणुवध पु [अनुवन्ध] १ मततपन, निरुत्त-  
रता, विच्छेद का अभाव (ठा ६, उवर १२८) ।  
२ संबन्ध (स १३८, गउड) । ३ कर्मों का  
संबन्ध (पचा १५) । ४ कर्मों का विपाक,  
परिणाम (उवर ४, पचा १८) । ५ स्नेह,  
प्रेम (स २७६),  
'नयराण पडठ वज्ज, अहवा वज्जम्म  
वड्डिळ किपि ।  
अमुरियजणेवि दिट्ठे, अणुवध जाणि कुव्वंति'  
(सुर ४, २०) । ६ शास्त्र के आरम्भ में कहने  
लायक अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबन्ध  
(भाव १) । ७ निर्वन्ध, आग्रह (म ४५८) ।  
अणुवधअ वि [अनुवन्धक] अनुवन्ध करने-  
वाला (नाट) ।  
अणुवधण न [अनुवन्धन] अनुकूल बन्धन  
(उत्त २६, ४५, सुख २९, ४५) ।  
अणुवधणा स्त्री [अनुवन्धना] अनुसन्धान,  
विस्मृत अर्थ का सन्धान (पचा १२, ४५) ।  
अणुवधि वि [अनुवन्धिन्] अनुवन्धवाला,  
अनुवन्ध करनेवाला (धर्म २, स १२७) ।  
अणुवधिअ न [दे] हिका-रोग, हिचकी (दे  
१, ४४) ।  
अणुवधेइ वि [अनुवन्धिन्] विच्छेद-रहित,  
अनुगमवाला, अविनश्यर (उप २३३) ।

अणुयज्झ } वि [अनुयज्झ] ? नवा ह्रस्वा,  
अणुयज्झ } नवद्व (ने ११, ६०) । २ नतत,  
श्रविच्छिन्न, 'अणुवद्वित्त्ववेरा परोप्पर वेयण  
उदीरंति' (परह १, १) । ३ व्याप्त (राया  
१, २) । ४ प्रतिवद्व (राया १, २) । ५  
अत्यत, वद्वत, 'अणुवद्वनिरतरवेयणानु' (परह  
१, १) । ६ उत्पन्न (उत्तर ६२) ।

अणुवद्व वि [अनुवद्व] ? अनुगत (पचा ६,  
२०) । २ पीछे नवा ह्रस्वा (निरि ४४४) ।

अणुवृह् देखो अणुवृह् ।

अणुवभट्ट वि [अनुवभट्ट] अनुदत्त, अनुत्वरण  
(उत्तर २) ।

अणुवभूय वि [अनुवभूय] अग्रकट, अनुत्पन्न  
(नाट) ।

अणुवभअ देखो अणुभव = अनुभव (नाट) ।

अणुभव सक [अनु + भू] ? अनुभव करना,  
जानना, समझना । २ कर्मफल को भोगना ।

अणुभवति (पि ४७५) । वृह, अणुभवत  
(पि ४७५) । संकृ अणुभवतिअ, अणुभवतिआ  
(नाट, परह १, १) । हेकृ अणुभवतिउ  
(उत्तर १८) ।

अणुभव वृं [अनुभव] ? ज्ञान, बोध निश्चय  
(पचा ५) । २ कर्मफल का भोग (वित्ते) ।

अणुभवण न [अनुभवण] उपर देखो (आव  
४, विने २०६०) ।

अणुभवि वि [अनुभविन] अनुभव करनेवाला  
(विने १६५८) ।

अणुभव्य वि [अनुभव्य] आसन्न भव्य  
(संबोध ५४) ।

अणुभाग पु [अनुभाग] ? प्रभाव, माहात्म्य  
(मूत्र १, ५, १) । २ शक्ति, सामर्थ्य (परह २) ।

३ कर्मों का विपाक—फल (सूत्र १, ५, १) । ४  
कर्मा का रस, कर्मों में फल उत्पन्न करने की  
शक्ति, 'ताण रसो अणुभागो' (कम्म १, २ टी,  
नव ३१) । 'वध पुं [वन्ध] कर्म-मुद्गलो  
मे फल उत्पन्न करने की शक्ति का वनना (ठा  
४, २) ।

अणुभाय } पु [अनुभाव] १-४ उपर देखो  
अणुभाव } (प्रातू ३५, ठा ३, ३, गठह; आचा,  
सम ६) । ५ मनोगत भाव की सूचक चेष्टा,  
जैसे भौहका चढाना वगैरह (नाट) । ६ कृपा,  
मेहरवानी (स ३५५) ।

अणुभाय पु [अनुभाव] १-४ उपर देखो  
अणुभाव } (प्रातू ३५, ठा ३, ३, गठह; आचा,  
सम ६) । ५ मनोगत भाव की सूचक चेष्टा,  
जैसे भौहका चढाना वगैरह (नाट) । ६ कृपा,  
मेहरवानी (स ३५५) ।

अणुभाय पु [अनुभाव] १-४ उपर देखो  
अणुभाव } (प्रातू ३५, ठा ३, ३, गठह; आचा,  
सम ६) । ५ मनोगत भाव की सूचक चेष्टा,  
जैसे भौहका चढाना वगैरह (नाट) । ६ कृपा,  
मेहरवानी (स ३५५) ।

अणुभाय पु [अनुभाव] १-४ उपर देखो  
अणुभाव } (प्रातू ३५, ठा ३, ३, गठह; आचा,  
सम ६) । ५ मनोगत भाव की सूचक चेष्टा,  
जैसे भौहका चढाना वगैरह (नाट) । ६ कृपा,  
मेहरवानी (स ३५५) ।

अणुभाय पु [अनुभाव] १-४ उपर देखो  
अणुभाव } (प्रातू ३५, ठा ३, ३, गठह; आचा,  
सम ६) । ५ मनोगत भाव की सूचक चेष्टा,  
जैसे भौहका चढाना वगैरह (नाट) । ६ कृपा,  
मेहरवानी (स ३५५) ।

अणुभाय पु [अनुभाव] १-४ उपर देखो  
अणुभाव } (प्रातू ३५, ठा ३, ३, गठह; आचा,  
सम ६) । ५ मनोगत भाव की सूचक चेष्टा,  
जैसे भौहका चढाना वगैरह (नाट) । ६ कृपा,  
मेहरवानी (स ३५५) ।

अणुभावग वि [अनुभावक] वाचक, सूचक,  
(आवम) ।

अणुभास नक [अनु + भाप्] ? अनुवाद  
करना, कही हुई बात को उन्नी शब्द में, शब्दा-  
न्तर में या दूसरी भाषा में कहना । २ चिन्तन  
करना, 'अणुभासद गुत्वयण' (आतू ६, वव  
३) । वृह अणुभासयत, अणुभासमाग  
(न १८४ विने २५१२) ।

अणुभासग न [अनुभापण] अनुवाद, उक्त  
बात का कहना (नाट) ।

अणुभासणा स्त्री [अनुभापणा] ऊपर देखो  
(ठा ५, ३, विने २५२० टी) ।

अणुभासय वि [अनुभापक] अनुवादक, अनु-  
वाद करनेवाला (विने ३२१७) ।

अणुभासयत देखो अणुभास ।

अणुभुज नक [अनु + भुज्] भोग करना ।  
वृह अणुभुजमाण (स १६) ।

अणुभुइ स्त्री [अनुभूति] अनुभव - (विने  
१६११) ।

अणुभूय वि [अनुभूत] ज्ञात निश्चित (महा) ।  
'पुव्व वि [पुव्वे] पहने ही जिनका अनुभव  
हो गया हो वह (राया १, १) ।

अणुभूस सक [अनु + भूप्] नूपित करना,  
शोभित करना । अणुभूमेदि (शौ) (नाट) ।

अणुभूइ स्त्री [अनुभूति] अनुभव - (विने  
१६११) ।

अणुभूय वि [अनुभूत] ज्ञात निश्चित (महा) ।  
'पुव्व वि [पुव्वे] पहने ही जिनका अनुभव  
हो गया हो वह (राया १, १) ।

अणुभूस सक [अनु + भूप्] नूपित करना,  
शोभित करना । अणुभूमेदि (शौ) (नाट) ।

अणुभूइ स्त्री [अनुभूति] अनुभव - (विने  
१६११) ।

अणुभूय वि [अनुभूत] ज्ञात निश्चित (महा) ।  
'पुव्व वि [पुव्वे] पहने ही जिनका अनुभव  
हो गया हो वह (राया १, १) ।

अणुभूस सक [अनु + भूप्] नूपित करना,  
शोभित करना । अणुभूमेदि (शौ) (नाट) ।

अणुभूइ स्त्री [अनुभूति] अनुभव - (विने  
१६११) ।

अणुभूय वि [अनुभूत] ज्ञात निश्चित (महा) ।  
'पुव्व वि [पुव्वे] पहने ही जिनका अनुभव  
हो गया हो वह (राया १, १) ।

अणुभूस सक [अनु + भूप्] नूपित करना,  
शोभित करना । अणुभूमेदि (शौ) (नाट) ।

अणुभूइ स्त्री [अनुभूति] अनुभव - (विने  
१६११) ।

अणुभूय वि [अनुभूत] ज्ञात निश्चित (महा) ।  
'पुव्व वि [पुव्वे] पहने ही जिनका अनुभव  
हो गया हो वह (राया १, १) ।

अणुभूस सक [अनु + भूप्] नूपित करना,  
शोभित करना । अणुभूमेदि (शौ) (नाट) ।

निरणो अणुमरंति' (आउ ३५) । भवि, अणु-  
मरिहिड (पि ५२२) ।

अणुमरं अक [अनु + मृ] क्रम में मरना, पीछे-  
पीछे मरना, 'इय पारपणमरणे अणुमरं सह-  
स्सनो जाव' (पिट २७८) ।

अणुमरण न [अनुमरण] उपर देखो (गठह) ।

अणुमहत्तर वि [अनुमहत्तर] मुद्रिया का  
प्रतिनिधि (निरू ३) ।

अणुमाण न [अनुमान] १ अटकन-ज्ञान, हेतु  
के द्वारा अज्ञात वस्तु का निर्णय (आ ३५,  
ठा ८, ४) ।

अणुमाण न [अनुमान] ? अतिप्राय-ज्ञान  
(मूत्र १, १३, २०) । २ अनुसार (वृदु २७) ।

अणुमाण सक [अनु + मान्य] अनुमान  
करना । संकृ अणुमाणइत्ता (नव १) ।

अणुमाय वि [अणुमात्र] बहुत थोडा, थोडा  
परिमाणवाला (दम ५, २) ।

अणुमाल अक [अनु + माल्य] शोभित  
होना, चमकना । संकृ अणुमालिचि (भवि) ।

अणुमिण सक [अनु + मा] अटकल से  
जानना । कर्म अणुमिणवइ (धर्मम १२१६),  
अणुमीयण (दसनि ४, ३०) ।

अणुमेअ वि [अनुमेय] अनुमान के योग्य  
(ने ७३) ।

अणुमेरा स्त्री [अनुमर्यादा] मर्यादा, हद  
(कम) ।

अणुमोइय वि [अनुमोदित] अनुमत, समत,  
प्रसन्नित (आउर, भवि) ।

अणुमोय सक [अनु + मुद] अनुमति देना,  
प्रशंसा करना । अणुमोयइ (उव) । अणुमोएमी  
(चउ ५८) ।

अणुमोय वि [अनुमोदक] अनुमोदन करने-  
वाला (वित्ते) ।

अणुमोयण न [अनुमोदन] अनुमति, सम्मति,  
प्रशंसा (उव, पचा ६) ।

अणुमुक्क वि [अनुमुक्त] नहीं छोडा हुआ  
(परह १, ४) ।

अणुमुह वि [अनुमुख] असमुख, विमुख  
'किह साहुस्स अणुमुहो चिद्वामि ति' (महा) ।

अणुय पु [अणुक] धान्य-विशेष (पव १५६) ।

अणुयपा देखो अणुकपा (गठह, स २१४) ।

अणुयपा देखो अणुकपा (गठह, स २१४) ।

अणुयपा देखो अणुकपा (गठह, स २१४) ।

अणुयत्त देवो अणुवत्त = अनु + वृत् । अणु-  
यत्तः (भवि) । वृत्, अणुयत्तत, अणुयत्त-  
माण (पंचमा, विसे १२५१) । संकृ अणु-  
यत्तिष्ण (गड्ड) ।

अणुयत्त देवो अणुवत्त = अनुवृत्त (भवि) ।  
अणुयत्तणा स्त्री [अनुवर्तना] १ बीमार की  
सेवा-शुभूपा करना (वृह १) । २ अनुसरण ।  
३ अनुकूल वर्तन (जीव १) ।

अणुयत्तिव्य वि [अनुवृत्त] अनुकूल किया  
हुआ, प्रसादित (सुपा १३०) ।

अणुयरिय वि [अनुचरित] आचरित, अनु-  
ष्ठित (साया १, १) ।

अणुया देवो अणुण्णा (सूत्र २, १) ।

अणुयाव देवो अणुताव (स १८३) ।

अणुयास पु [अनुकारा] विरोध विकास  
(साया १, १) ।

अणुरंगा स्त्री [दे] गाढी (वृह १) ।

अणुरगि वि [अनुरङ्गिन्] अनुकरण-कर्ता  
(मुज १०, ८) ।

अणुरगिय वि [अनुरङ्गित] रगा हुआ (भवि) ।  
अणुरज सक [अनु + रञ्ज्य] अनुरागी  
करना, प्रीणित करना । वृत् अणुरजअत  
(नाट) । संकृ अणुरजिअ (नाट) ।

अणुरजणन [अनुरञ्जन] राग, आसक्ति (विसे  
२६७७) ।

अणुरजिएह्य } वि [अनुरङ्गित] अनुरक्त  
अणुरजिय } किया हुआ, अनुरागी बनाया  
हुआ (जं ३, महा) ।

अणुरक्त वि [अनुरक्त] अनुराग-प्राप्त, प्रेम-  
प्राप्त (नाट) ।

अणुरज्ज अक [अनु + रज्ज्] अनुरक्त  
होना, प्रेमी होना, 'अणुरज्जंति खणेण जुवईउ  
खणेण पुण विरज्जंति' (महा) ।

अणुरत्त देवो अणुरक्त (साया १, १६) ।

अणुरसिय वि [अनुरसित] बोलाया हुआ,  
आहूत (साया १, ६) ।

अणुराइ } वि [अनुरागिन्] अनुराग-  
अणुराट्टह } वाला, प्रेमी (स ३३८, महा  
सुर १३, १२०) ।

अणुराग पु [अनुराग] प्रेम, प्रीति (सुर ४,  
२२८) ।

अणुरागय वि [अन्वागत] १ पीछे आया  
हुआ । २ ठीक-ठीक आया हुआ । ३ न  
त्वागत (भग २, १) ।

अणुरागि देवो अणुराइ (महा) ।

अणुराय देवो अणुराग (प्रासू १११) ।

अणुराहा स्त्री [अनुराधा] नक्षत्र-विशेष (सम  
६) ।

अणुरध सक [अनु + रुध्] १ अनुरोध  
करना । २ स्वीकार करना । ३ आज्ञा का  
पालन करना । ४ प्रार्थना करना । ५ अक  
मघोन होना । कर्म अणुरधिविद्ध (हे ४, २४८  
प्रामा) ।

अणुरुअ } वि [अनुरूप] १ योग्य, उचित  
अणुरुव } (मे ६, ३६) । २ अनुकूल (सुपा  
११२) । ३ सदृश, तुल्य (साया १, १६) ।  
४ न समानता, योग्यता (सम्म) ।

अणुरोह पु [अनुरोध] १ प्रार्थना, 'ता ममा-  
गुरोहेण एव घरे निच्चमेव आगतव्व' (महा) ।  
२ दाक्षिण्य, दक्षिणता (पाप) ।

अणुरोहि वि [अनुरोधिन्] अनुरोध करने-  
वाला (स १२१) ।

अणुलग्ग वि [अनुलग्ग] पीछे लगा हुआ (गा  
३४५, सुर ३, २२६, सूक्त ७) ।

अणुलद्ध वि [अनुलद्ध] १ पीछे से मिला  
हुआ । २ फिर से मिला हुआ (नाट) ।

अणुलाव पु [अनुलाप] फिर-फिर बोलना  
(ठा ७) ।

अणुलिपि सक [अनु + लिप्] १ पोतना,  
लेप करना । २ फिर से पोतना । संकृ अणु-  
लिपित्ता (पि ५८२) । हेक. अणुलिपित्ताए  
(पि ५७८) ।

अणुलिपण न [अनुलेपन] लेप, पोतना (पणह  
२, ३) ।

अणुलित्त वि [अनुलिप्त] लिप्त, पोता हुआ  
(कप्प) ।

अणुलिह सक [अनु + लिह्] १ चाटना ।  
२ छूना । वृत् अणुलिहत (सम १३१),  
'गयणयनमणुलिहत' (पच्च ३६, १२) ।

अणुलेवण न [अनुलेपन] १ लेप, पोतना  
(स्वप्न ६४) । २ फिर से पोतना (पणण २) ।

अणुलेविय वि [अनुलेपित] लिप्त, पोता हुआ;  
'कम्माणुलेविमो मो' (पच्च ८२, ७८) ।

अणुलोम सक [अनुलोम्य] १ क्रम मे  
रखना । २ अनुकूल करना । संकृ अणुलोम-  
इत्ता (ठा ६) ।

अणुलोम न [अनुलोम] १ अनुक्रम, यथाक्रम,  
'वत्य दुहाणुलोमेण तह य पडिलोमस्यो भवे  
वत्य' (सुर १६, ४८) ।

अणुलोम वि [अनुलोम] सीधा, अनुकूल  
(ज २) ।

अणुल्लग देवो अणुल्लय (सुख ३६, १३०) ।  
अणुल्लण वि [अनुल्लण] अनुद्धत, अनुद्धत  
(वृह ३) ।

अणुल्लय पु [अनुल्लय] एक द्वीन्द्रिय क्षुद्र जन्तु  
(उत्त ३६) ।

अणुल्लाप पुं [अनुल्लाप] खराब कथन, दुष्ट  
उक्ति (ठा ३) ।

अणुव पुं [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे १,  
१६) ।

अणुवड्ढ वि [अनुपदिष्ट] १ अ-कथित, अ-  
व्याख्यात । २ जो पूर्व-परम्परा से न आया हो,  
'अणुवड्ढ नाम ज एणो आयरियपरपरागय'  
(नीचू ११) ।

अणुवड्ढत वि [अनुपयुक्त] असावधान  
(विने) ।

अणुवएस पु [अनुपदेश] १ श्रयोग्य उपदेश  
(पचा १२) । २ उपदेश का अभाव । ३  
स्वभाव (ठा २, १) ।

अणुवओग वि [अनुपयोग] १ उपयोग-रहित ।  
२ उपयोग का अभाव, असावधानता (अणु) ।

अणुवक वि [अनुवक्र] अत्यंत वक्र, बहुत  
टेढ़ा, 'जाव अगारसो रासि विअ अणुवक परि-  
गमण णु करेदि' (माल ६२) ।

अणुवडण न [अनुवन्दन] प्रति-नमन, प्रति-  
प्रणाम (साधं ३६) ।

अणुवक देवो अणुवक (पि ७४) ।

अणुवक्ख वि [अनुपाख्य] नाम-रहित, अनि-  
वंचनीय (वृह १) ।

अणुवक्खड वि [अनुपस्कृत] सस्कार-रहित  
(पाक) (निहू १) ।

अणुवच्च सक [अनु + व्रज्] अनुसरण  
करना, पीछे-पीछे जाना । अणुवच्चइ (हे ४,  
१०७) ।

अणुवच्चिअ वि [अनुव्रजित] अनुसृत (कुमा) ।

अणुवजीवि वि [अनुपजीविन्] १ अना-  
-श्रित । २ आजोविका-रहित (पंचा १५) ।

अणुवजुत्त वि [अनुपयुक्त] यमावधान,  
व्यान-शून्य (अभि १३१) ।

अणुवज्ज सक [गम्] जाना । अणुवज्जइ (हे  
४, १६०) ।

अणुवज्ज चक [दे] नेवा-शुश्रूषा करना (दे  
१, ४१) ।

अणुवज्जण न [दे] नेवा-शुश्रूषा (दे १, ४१) ।

अणुवज्जिअ वि [दे] जिसनी नेवा-शुश्रूषा  
की गई हो वह (दे १, ४१) ।

अणुवज्जिअ वि [दे] गत, गया हुआ (दे  
१, ४१) ।

अणुवट्ट देवो अणुवत्त = अनु + वृत् । कृ  
अणुवट्टणीअ (नाट) ।

अणुवट्टि देवो अणुवत्ति = अनुवत्तिन् (विसे  
२४१७) ।

अणुवड सक [अनु + पन्] अमित्र होना ।  
अणुवडइ (उवर ७१) ।

अणुवडिअ वि [अनुपत्ति] पीछे गिरा हुआ  
(हम्मीर ५०) ।

अणुवत्त सक [अनु + वृत्] १ अनुसरण  
करना । २ नेवा-शुश्रूषा करना । ३ अनुकूल  
वरतना । ४ व्याकरण आदि के पूर्व सूत्र के  
पद का, अन्वय के लिए नीचे के सूत्र में  
जाना । अणुवत्तइ (स ४२) । वक्र अणुत्तत,  
अणुवत्तत, अणुवत्तमाण (प्राप्र; विसे  
३५६८, नाट) । कृ. अणुवट्टणीअ, अणु-  
वत्तणीअ, अणुवत्तियन्व (नाट, उप १०३१  
टी) ।

अणुवत्त वि [अनुद्वृत्त] अनुपन्न (पिंड  
१८) ।

अणुवत्त वि [अनुवृत्त] १ अनुसृत, अनुगत ।  
२ अनुकूल किया हुआ । ३ प्रवृत्त (वच २) ।

अणुवत्तग वि [अनुवर्त्तक] अनुकूल प्रवृत्ति  
करनेवाला, सेवा करनेवाला (उव) ।

अणुवत्तग वि [अनुवर्त्तक] अनुसरण-कर्ता  
(सूत्र १, २, २, ३०) ।

अणुवत्तण न [अनुवर्त्तन] १ अनुसरण (स  
२३६) । २ अनुकूल प्रवृत्ति (गा २६५) । ३  
पूर्व सूत्र के पद का अन्वय के लिए नीचे के  
सूत्र में जाना (विसे ३५६८) ।

अणुवत्तणा स्त्री [अनुवर्त्तना] ऊपर देखो  
(उवर १४८) ।

अणुवत्तय देखो अणुवत्तग, 'अन्नमन्नच्छन्नाणु-  
वत्तया' (साया १, ३) ।

अणुवत्ति स्त्री [अनुवृत्ति] १ अनुसरण (स  
४५६) । २ अनुकूल प्रवृत्ति । ३ अनुगम (विने  
७०५) ।

अणुवत्ति वि [अनुवर्त्तिन्] अनुकूल प्रवृत्ति  
करनेवाला, भक्त, मेवक;

'तुह चडि । चरणकमनाणुवत्तिणो कह  
णु सजमिळति ।

नेट्टिवहसकियमहिसहोर्माणेण व जमेण'  
(गडट) ।

अणुवत्ति वि [अनुवर्त्तिन्] ऊपर देखो  
(धनेवि ५०, मोह १०२) ।

अणुवम वि [अनुपम] उपमान-रहित, बेजोड,  
अद्वितीय (आ २७) ।

अणुवमा स्त्री [अनुपमा] एक प्रकार का खाद्य  
द्रव्य (जीव ३) ।

अणुवमिय वि [अनुपमित] देखो अणुवम  
(मुपा ६८) ।

अणुवय देखो अणुव्यय (पञ्च २, ९२) ।

अणुवय नक [अनु + वट्ट] अनुवाद करना,  
कहे हुए श्रय को फिर से कहना । वक्र अणु-  
वयमाण (आचा) ।

अणुवरय वि [अनुपरत] १ असयत, अनि-  
ग्रही (ठा २, १) । २ क्वि निगन्तर. हमेशा  
(रण २५) ।

अणुवलद्धि स्त्री [अनुपलद्धि] १ अभाव,  
अप्राप्ति । २ अभाव-ज्ञान, 'दुविहा अणुवलद्धीठ'  
(विसे १६८२) ।

अणुवलद्धममाण वि [अनुपलद्ध्यमान] जो  
उपलब्ध न होता हो, जो जानने में न आता  
हो (दसनि १) ।

अणुवलेवय वि [अनुपलेपक] उपलेप-रहित,  
अनिप्त (पह १, २) ।

अणुवसत वि [अनुपशान्त] अशान्त, कुपित  
(उत्त १६) ।

अणुवसस पृ [अनुपशम] उपशम का अभाव  
(उव) ।

अणुवसु वि [अनुवसु] रागवाला, प्रीतिवाला  
(आचा) ।

अणुवह न [अनुपथ] पीछे, 'वुमराणुवहेण  
सो गतो' (उप ६ टी) ।

अणुवहण न [अनुवहन] वहन, 'तमोवहाण-  
नुयाणमणुवहण' (श्रु १३५) ।

अणुवहय वि [अनुपहत] श्रविनाशित  
(पिंड) ।

अणुवहुआ स्त्री [टे] नवीडा स्त्री, दुनहिन (दि  
१, ४८) ।

अणुवाड वि [अनुपातिन्] १ अनुसरण  
करनेवाला (ठा ६) । २ नम्रन्व रक्तेवाला  
(सम १५) ।

अणुवाइ वि [अनुवादिन्] अनुवाद करने-  
वाला, उक्त श्रय को कहनेवाला (सूत्र १,  
१२, उत्त १८ टी) ।

अणुवाइ वि [अनुवाचिन्] पढ़नेवाला,  
श्रम्यामी, 'सुप्रवीनवरिसो अणुवाइ मव्वनु-  
त्तत्त' (सत्त १४ टी) ।

अणुवाएज्ज वि [अनुपादेय] ग्रहण कने  
के श्रयोग्य, (पावम) ।

अणुवाद देखो अणुवाय = अनुवाद (विने  
३५७७) ।

अणुवादि देखो अणुवाइ = अनुवातिन् (उत्त  
१६, ६) ।

अणुवाय पुं [अनुपात] १ अनुसरण (परण  
१७) । २ मव्वन्व, संयोग (मग १२, ४) ।  
३ आगमन (पंचा ७) ।

अणुवाय पु [अनुवात] १ अनुकूल पवन  
(राय) । २ वि अनुकूल पवन वाला प्रदेश—  
स्यात (मग १६, ६) ।

अणुवाय वि [अनुपाय] उपाय-रहित, निरु-  
पाय (उप ५ १४) ।

अणुवाय पुं [अनुवाद] अनुमापण, उक्त बात  
को फिर से कहना (उवा; दे १, १३१) ।

अणुवायण न [अनुपातन] श्रवतारण, उता-  
रना (वर्म २) ।

अणुवायय वि [अनुवाचक] कहनेवाला,  
अभिनायक, 'पीसहसदो ख्डीए एत्थ पच्चाणु-  
वाययो भण्णिओ' (मुपा ६१६) ।

अणुवाल देखो अणुपाल । वक्र अणुवाल्लेत्त  
(स २३) । संकृ. अणुवाल्लिऊण (स १०२) ।

अणुवालण न [अनुपालन] रक्षण, परिपालन  
(आचा) ।

अणुवाल्गना स्त्री [अनुपालना] १ ऊपर देखो (पंच्) । २ °कल्प पु [°कल्प] साधु-भाषा के नायक की अकस्मात् मृत्यु हो जाने पर गण की रक्षा के लिए शास्त्रीय विधान (पचभा) ।  
 अणुवालय वि [अनुपालक] १ रक्षक, परिपालक । २ पु गौरालक के एक भक्त का नाम (मग २४, २०) ।  
 अणुवास सक [अनु + वासय्] व्यवस्था करना । अणुवासेत्सि (भाचा) ।  
 अणुवास पु [अनुवास] एक स्थान में अणुक काल तक रह कर फिर वहाँ वास करना (पंचभा) ।  
 अणुवासण न [अनुवासन] १ ऊपर देखो । २ यन्त्रद्वारा तेन आदि को अपान से पेट में चढ़ाना (णाय १, १३) ।  
 अणुवासणा स्त्री [अनुवासना] ऊपर देखो (पचभा, णाय १, १३) °कल्प पु [°कल्प] अनुवास्त के लिए शास्त्रीय व्यवस्था (पचभा) ।  
 अणुवासग वि [अनुपासक] १ सेवा नहीं करनेवाला । २ पु जैनतर गृहस्थ (निचू ८) ।  
 अणुवासर न [अनुवासर] प्रतिदिन, हमेशा (नुर १, २४१) ।  
 अणुवित्ति स्त्री [अनुवृत्ति] १ अनुकूल वर्तन (कुमा) । २ अनुसरण (उप ८३३ टी) ।  
 अणुविद्ध वि [अनुविद्ध] संबद्ध, जुड़ा हुआ (मे ११, १५) ।  
 अणुविस सक [अनु + विश्] प्रवेश करना । अणुविसति (सिक्त्वा ७७) ।  
 अणुविहाण न [अनुविधान] १ अनुकरण । २ अनुसरण (विसे २०७) ।  
 अणुवीड स्त्री [अनुवीचि] अनुकूलता, धिया-णुवीड मा कासि चोइञ्जतो गिलाइ से भुजो' (सूत्र १, ४, १, १६) ।  
 अणुवीड } अ [अनुविचिन्त्य] विचार  
 अणुवीई } कर, पर्यालोचना कर (पि ५६३,  
 अणुवीति } भाचा; दस ७) । देखो अणु-  
 अणुवीतिय } चित ।  
 अणुवीइत्तु } देखो अणुवीई (सूत्र १, १२,  
 अणुवीय } २, १, १०, १) ।  
 अणुवूह सक [अनु + वृह्] अनुमोदन करना, प्रशंसा करना । अणुवूहेइ (कप्य) ।

अणुवूहेत्तु वि [अनुवृह्] अनुमोदन करने वाला (ठा ७) ।  
 अणुवेद सक [अनु + वेदय्] अनुभव करना । वक्र अणुवेदयंत (सूत्र १, ५, १) ।  
 अणुवेध } पु [अनुवेध] १ अनुगम, अन्वय,  
 अणुवेह } सम्बन्ध (धर्मसं ७१२; ७१५) ।  
 २ समिश्रण (पिंड ५६) ।  
 अणुवेयण न [अनुवेदन] फल-भोग, अनुभव (स ४०३) ।  
 अणुवेल भ्र [अनुवेल] निरन्तर, नदा (पात्र) ।  
 अणुवेलधर पु [अनुवेलन्धर] नाग-कुमार देवो का एक इन्द्र (मम ३३) ।  
 अणुवेह देवो अणुप्पेह । वक्र अणुवेहमाण (सूत्र १, १०) ।  
 अणुव्वइय वि [अनुव्रजित] अनुश्रुत (स ६८७) ।  
 अणुव्वज मक [अनु + व्रज्] १ अनुसरण करना । २ सामने जाना । अणुव्वजे (सूत्र १, ४, १, ३) ।  
 अणुव्वय न [अनुव्रत] छोटा व्रत, साधुओं के महाव्रतों की अपेक्षा लघु व्रत, जैन गृहस्थ के पालने के नियम (ठा ५, १) ।  
 अणुव्वय न [अनुव्रत] ऊपर देखो (ठा ५, १) ।  
 अणुव्वय पुं [अनुव्रत] श्रावक-धर्म (पचा १०, ८) ।  
 अणुव्वयण न [अनुव्रजन] अनुगमन (धर्मवि ५४) ।  
 अणुव्वयय वि [अनुव्रजक] अनुसरण करने वाला, 'अन्नमन्नणुव्वया' (णाय १, ३) ।  
 अणुव्वया स्त्री [अनुव्रता] पतिव्रता स्त्री (उत्त २०) ।  
 अणुव्वस वि [अनुवश] अधीन, आगत, 'एवं तुब्भे सरागन्था अन्नमन्नणुव्वया' (सूत्र १, ३, ३) ।  
 अणुव्व्याण वि [अनुव्यान] १ अ-वन्ध, खुला हुआ (उप २११ टी) । २ स्निग्ध, चिकना; 'पव्वाण किञ्चिच्चवाणमेव किञ्चिच्च होमणुव्वाण' (श्लो ४८८) ।  
 अणुव्विग्ग वि [अनुव्विभ] अ-खिन्न, खेद-रहित (णाय १, ८, गा २८५) ।

अणुव्विवाग न [अनुविपाक] विपाक के अनुमार, 'एवं तिरिक्खे मणुयासुरेसु चउरंतएतंत तयणुव्विवाग (सूत्र १, ५, २) ।  
 अणुव्वीइय देवो अणुवीइ (जीव)  
 अणुसकम सक [अनुम + क्रम्] अनुसरण करना । अणुमंकरमति (उत्त १३, २५) ।  
 अणुसग पु [अनुपङ्ग] १ प्रसंग, प्रस्ताव (प्रासू ३६, भवि) । २ ससर्ग, सोहवत, 'मज्झठिई पुण एसो; अणुसड्गेण हवन्ति गुण-दोसा' (मट्ठि २८, २७) ।  
 अणुसगिअ वि [आनुपङ्गिक] प्रासङ्गिक (प्रवि १५) ।  
 अणुसचर सक [अनुस + चर्] १ परिभ्रमण करना । २ पीछे चलना । अणुसचरइ (भाचा; सूत्र १, १०) ।  
 अणुसज्ज देखो अणुसज्जा अणुसज्जति (पव ६८) ।  
 अणुसंध सक [अनुस + धा] १ खोजना, ढूँढना, तलाश करना । २ विचार करना । ३ पूर्वापर का मिलान करना । अणुसधेमि (पि ५००) । सक्क अणुसंधिवि (भवि) ।  
 अणुसंधण } न [अनुसधान] गवेषणा,  
 अणुसधाण } खोज (सवोध ४४) । २ पूर्वा-  
 पर की संगति (धर्मसं ३०३) ।  
 अणुसधण } न [अनुसधान] १ खोज,  
 अणुसधाण } शोध । २ विचार, चिन्तन, 'अत्ताणुसधणपरा सुमावणा एरिसा ह्वति' (आ २०) । ३ पूर्वापर का मिलान (पचा १२) ।  
 अणुसधिअ न [दे] अविच्छिन्न हिक्का, निरन्तर हिचकी (दे १, ५६) ।  
 अणुसंभर सक [अनु + स्मृ] याद करना । अणुसंभरइ (दसनि ४, ५५) ।  
 अणुसवेयण न [अनुसवेदन] १ पीछे से जानना । २ अनुभव करना (भाचा) ।  
 अणुससर सक [अनुसं + सृ] गमन करना, भ्रमण करना; 'जो इमाओ दिसाओ वा विदिसाओ वा अणुसंसरइ' (भाचा) ।  
 अणुससर सक [अनुसं + स्मृ] स्मरण करना, याद करना । अणुसंसरइ (भाचा) ।  
 अणुसज्ज भ्रक [अनु + सज्] १ अनुसरण करना, पूर्व काल से कालान्तर में अनुवर्तन



करना । २ प्रीति करना । ३ परिवच करना ।  
अणुसज्जति (स) । भूवा अणुसज्जित्या (भग  
६, ७)

अणुसज्जणा ऋ [अनुसज्जना] अनुसरण,  
अनुवर्तन (वच १) ।

अणुसद्ध वि [अनुशिष्ट] जिसको शिक्षा दी  
गई हो वह, शिक्षित (नुर ११, २६) ।

अणुसद्धि वि [अनुशिष्टि] १ शिक्षण, सोच,  
उपदेश (ठा ३, ३) । २ न्युति, श्लाघा,  
'अणुसद्धो य धुड ति एगद्धा' (वच १) । ३  
घ्राज्ञा, अनुज्ञा, सम्मति, 'इच्छामो अणुसद्धिं  
पञ्च च देह मे भवत' (नुर ६, २०६) ।

अणुसमय न [अनुसमय] प्रतिक्षण (भग  
४१, १) ।

अणुसमय पृ [अनुशय] १ परचात्ताप, वेद  
(ने २, १६) । २ गर्व, अस्मिमान (अणु) ।

अणुसर नक [अनु + सृ] पीछा करना,  
अनुवर्तन करना । अणुसरइ (सण) । वह  
अणुसरत (महा) । कृ. अणुसरियञ्च (ठा  
५, १) ।

अणुसर सक [अनु + स्मृ] याद करना,  
चिन्तन करना । वह अणुसरत (पञ्च ६६,  
७) कृ. अणुसरियञ्च (आवम) ।

अणुसरण न [अनुसरण] १ पीछा करना ।  
२ अनुवर्तन (विसे ६१३) ।

अणुसरण न [अनुसरण] अनुचिन्तन, याद  
करना (पंचा १, न २३१) ।

अणुसरि देखो अणुमारि, 'आनायण परिहारे  
भतो सत्तीइ पवयणालुमरी' (भवोव ४) ।

अणुसरिउ वि [अनुस्मरु] याद करनेवाला  
(विने ६२) ।

अणुसरिच्छ वि [अनुसद्धा] १ समान,  
अणुसरिस तुल्य (पञ्च ६४, ७०) । २  
योग्य, लायक (ने ११, ११५, पञ्च ८५,  
२६) ।

अणुमार पु [अनुस्वार] १ वर्ण-विशेष, विन्दी ।  
२ वि अनुनासिक वर्ण (विसे ५०१) ।

अणुमार पुं [अनुसार] अनुसरण, अनुवर्तन  
(गडड, भावि) । २ माफिक, मुताबिक, 'कहिया-  
गुसारओ सव्वयुवाय नुमइणा नम्म' (साधं  
१४४) ।

अणुसारि वि [अनुमारि] अनुसरण करने  
वाला (गडड, स १०१, साधं २६) ।

अणुसाम सक [अनु + शाम्] १ नीच  
देना, उपदेश देना । २ आज्ञा करना । ३ शिक्षा  
करना, सजा देना । अणुसामनि (पि १७२) ।  
वह अणुसामंत (पि २६८) । कवक.  
अणुसामिज्जत (मुपा २७३) । कृ. अणुसा-  
सणिज्ज (कुमा) । हेह अणुसासिउं (पि  
५७६) ।

अणुसामण न [अनुशासन] १ सोच, उप-  
देश (नूर १, १५) । २ आज्ञा, हुकुम (सूत्र  
१, २, ३) । ३ शिक्षा, सजा (पंचा ६) । ४  
अनुकम्पा, दया, 'अणुकव ति वा अणुसाणंति  
वा एगद्धा' (पचचू) ।

अणुसासणा ऋ [अनुशासना] ऊपर देवो  
(राणा १, १३) ।

अणुसासिय वि [अनुशासित] शिक्षित (उत्त  
१, पि १७३) ।

अणुसिक्खर वि [अनुशिक्खि] सोवनेवाला,  
'ज ज करेसि ज ज, जपनि जह जह  
नुम निअच्छेनि ।

तं त अणुसिक्खरीए, दीहो दिअहो ए सपइइ' ।  
(गा ३७८) ।

अणुसिट्ठ देखो अणुसद्ध (सूत्र १, ३, ३) ।  
अणुसिट्ठि देखो अणुसद्धि (शोध १७३, वृह  
१, उत्त १०) ।

अणुसिण वि [अनुष्ण] गरम नहीं वह,  
ठण्डा (कम्म १, ४६) ।

अणुमील सक [अनु + शील्य] पालन  
करना, रक्षण करना । अणुमीलइ (सण) ।

अणुसुत्ति वि [दे] अनुकूल (दे १, २५) ।

अणुसुमर सक [अनु + स्मृ] याद करना ।  
अणुसुमरइ (धर्मवि ५६) । प्रयो अणुसुमरावेइ  
(धर्मवि ६५) ।

अणुसुय अक [अनु + स्वप्] सोने का अनु-  
करण करना । अणुसुयइ (तदु १३) ।

अणुसूआ ऋ [दे] शीघ्र ही प्रसव करनेवाली  
स्त्री (दे १, २३) ।

अणुसूय वि [अनुस्यूत] अर्थावद्ध, मिला हुआ  
(सूत्र २, ३) ।

अणुसूयग वि [अनुसूचक] जातस की एक  
श्रेणी,

'सूयग त्हाणुसूयग-पडिणुयग-सव्वसूयगा एव ।  
पुरिमा वयविनीया, वसति सामतनगरेमु ।-  
महिला वयविनीया, वसति सामतनगरेमु ॥'  
(वच १) ।

अणुसेट्ठि ऋ [अनुश्रेणि] १ मोधी लाइन ।  
२ न लाइनसर (पि ६६, ३०४) ।

अणुसोय पु [अनुस्रोतस्] १ अनुकूल  
प्रवाह (ठा ४, ४) । २ वि. अनुकूल, 'अणु-  
नोवनुहो लोणो पडिमोओ आसमो नुविहियाएण'  
(दसन्न २) । ३ न. प्रवाह के अनुसार,  
'अणुनोववट्टिए वहुजएण्णि

पडिमोवलट्टनकवेण ।  
पडिमोवनेव अण्णा, दायव्वो हांउणामेण ।  
- (दसन्न २) ।

अणुसोय नक [अनु + शुच्] सोचना,  
चिन्ता करना, अकत्तास करना । वह अणु-  
सोयमाण (मुपा १३३) ।

अणुस्सर देखो अणुसर = अनु + स्मृ । सद्ध.  
अणुस्सरित्ता (सूत्र १, ७, १६) ।

अणुस्सर देखो अणुसर = अनु + स्मृ । वह.  
अणुस्सरत (स १४०) ।

अणुस्सरण न [अनुस्मरण] चिन्तन करना,  
याद करना (उत्त स ५३५) ।

अणुस्मार पुं [अनुस्वार] १ अनुस्वार, विन्दी ।  
२ वि अनुस्वारवाला अक्षर, अनुस्वार के नाय  
जिसका उच्चारण हो वह (रादि; विसे ५०३) ।

अणुस्सुय वि [अनुस्सुक] उत्कण्ठ-रहित  
(सूत्र १, ६) ।

अणुस्सुय वि [अनुश्रुत्] १ अवधारित (उत्त  
५) । २ सुना हुआ (सूत्र १, २, २) । ३ न.  
भारत-प्रादि पुराण-शास्त्र (सूत्र १, ३, ४) ।

अणुहर सक [अनु + हृ] अनुकरण करना,  
नचल करना । अणुहरइ (पि ४७७) ।

अणुहरिय वि [अनुहृत] जिसका अनुकरण  
किया गया हो वह, अनुकृत;

'अणुहरियं धीर तुमे, चरिय निययस्स  
पुक्कपुरिनस्स ।

मरह-महानरवइणो, तिहयएविकत्ताय-कित्तिस्म'  
(महा) ।

अणुहव सक [अनु + भू] अनुभव करना ।  
अणुहवइ (पि ४७५) । वह अणुहवमाण  
(नुर १, १७१) । कृ. अणुहवियञ्च, अणु-

ह्वणीय (पठम १७, १४; मुपा ५८१) । संक  
अणुह्वेऊण, अणुह्विटं (प्राः पंचा २) ।  
अणुह्वण न [अनुभवन] अनुभव (स २८७) ।  
अणुह्विय वि [अनुभूत] जिसका अनुभव  
किया गया हो वह (मुपा ६) ।  
अणुहारि वि [अनुहारिन्] अनुकरण करने  
वाला, नकालची (कुमा) ।  
अणुहाव देखो अणुभाव (म ४०३, ६५६) ।  
अणुहियासण न [अन्वध्यासन] धैर्य से  
सहन करना (ज २) ।  
अणुहु सक [अनु + भू] अनुभव करना ।  
वह अणुहुत (पठम १०३, १५२) ।  
अणुहुंज सक [अनु + भुञ्] भोग करना,  
भोगना । अणुहुंजइ (मत्रि) ।  
अणुहुच देखो अणुहूअ (गा ६५६) ।  
अणुहूअ वि [अनुभूत] १ जिसका अनुभव  
किया गया हो वह (कुमा) । २ न अनुभव  
(स ८, २७) ।  
अणुहो सक [अनु + भू] अनुभव करना ।  
अणुहोति (पि ४७५) । वह अणुहोत (पठम  
१०६, १७) । कवक अणुहोईअंत, अणु-  
होइजत, अणुहोइजमाण, अणुहोईअमाण  
(पड) । क अणुहोइअ (श्री) (मत्रि  
१३२) ।  
अणुकप्प देखो अणुकप्प, 'एतो वोचं अणू-  
कप्प' (पचमा) ।  
अणूण वि [अनूत] कम नहीं, अचिक  
(कुमा) ।  
अणूय } पु [अनूप] अचिक जलवाला देण,  
अणूय } जल-बहुल स्थान (विसे १७०३,  
वव ४) ।  
अणेअ वि [अनेक] देखो अणेक (कुमा मत्रि  
२४६) ।  
अणेकअ वि [दे] चञ्चल, चपल (दि १,  
३०) ।  
अणेक } वि [अनेक] एक से अधिक, बहुत  
अणेग } (श्रीप, प्रासू ५३) । °करण न  
[°करण] पर्याय; धर्म, धवस्था (सम्म १०६) ।  
राइय वि [रात्रिक] अनेक रातों में होने-  
वाला, अनेक रात संबन्धी (उत्सवादि)  
(वम) । °सो अ [°शस] अतिक द्वार  
(श्री १४) ।

अणेगंत पु [अनेकान्त] अनिश्चय, नियम का  
अभाव (विसे) । °वाय पु [°वाद] स्याद्वाद,  
जैनो का मुख्य सिद्धान्त, सत्व-अमत्व-आदि  
अनेक विरुद्ध वर्गों का भी एक वस्तु में सापेक्ष  
स्वीकार,  
'जेण विराा लोगस्सवि, ववहारो  
सव्वहा न निव्वडइ ।  
तस्स भुवणेक्खुल्लो नमो अणेगतवायस्स'  
(सम्म १६६) ।  
अणेगंतिय वि [अनैकान्तिक] ऐकान्तिक  
नहीं, अनिश्चित, अनियमित (भग १, १) ।  
अणेगावाड वि [अनेकवादिन्] पदार्थों को  
मर्बंवा अलग-अलग माननेवाला, अक्रियावाद-  
मत का अनुयायी (ठा ८) ।  
अणेच्छत वि [अनिच्छत्] नहीं चाहता  
हुआ (उप ७६८ टी) ।  
अणेज वि [अनेज] नियल, निष्कम्प (आक) ।  
अणेज्ज वि [अज्ञेय] जानने के अयोग्य,  
जानने के अशक्य (महा) ।  
अणेज्जि वि [अनीदृश] अनुपम, असाधारण,  
'जे धम्म मुद्धमक्खाति पडिपुएणमणेज्जि'  
(सूत्र १, ११) ।  
अणेवभूय वि [अनेवभूत] विलक्षण,  
विचित्र 'अणेवभूयपि धेयण वेदति' (भग  
५, ५) ।  
अणेस देखो अणोस । वह अणेसंत (नाट) ।  
अणेसण न [अन्वेपण] खोज, तलारा (महा) ।  
अणेसणा स्त्री [अनेपणा] एपणा का अभाव  
(उवा) ।  
अणेसणिज्ज वि [अनेपणीय] अकल्पनीय,  
जैन साधुओं के लिए अघ्राण्य (भिक्षा-आदि)  
(ठा ३, १, राया १, ५) ।  
अणोउया स्त्री [अनुनुका] जिसकी ऋतु-वर्ष  
न आता हो वह स्त्री (ठा ५, २) ।  
अणोअंत वि [अनवक्रान्त] जिसका परामव  
न किया गया हो वह, अजित, 'परवाईह  
अणोअता' (श्रीप) ।  
अणोगगह देखो अणुगगह = अनवग्रह; 'नाग-  
रगो सव्वट्ठो अणोगगहो' (वृह ३) ।  
अणोअर्घासय वि [अनववर्षित] नहीं विसा  
हुआ, अमाजित (राय) ।

अणोज्ज वि [अनवद्य] निर्दोष, शुद्ध (राया  
१, ८) ।  
अणोज्जगी स्त्री [अनवद्याङ्गी] भगवान् महा-  
वीर की पुत्री का नाम (आचू) ।  
अणोज्जा स्त्री [अनवद्या] ऊपर देखो (कण्) ।  
अणोणअ वि [अनवन्त] नहीं झुका हुआ  
(मे १, १) ।  
अणोत्तप्प देखो अणुत्तप्प (पव ६४) ।  
अणोम वि [अनवम] हीन-रहित, परिपूर्ण  
(आचा) ।  
अणोमाण न [अनपमान] अनादर का अभाव,  
सत्कार, 'एव उगमदोसा विज्जा  
पइरिक्कया अणोमाण ।  
मोहतिगिच्छा य कया,  
विरियायारो य अणुचिरणो'  
(श्रीध २४६) ।  
अणोरपार वि [दे] १ प्रचुर, प्रभूत (आवम) ।  
२ अनादि-अनन्त (पचा १५, जी ४४) । ३  
अति विस्तीर्ण (परह १, ३) ।  
अणोरुस्मिअ वि [अनुद्धान] अ-शुष्क, गीला  
(कुमा) ।  
अणोलय न [दे] प्रभात, प्रात काल (दि १,  
१६) ।  
अणोवणिहिया स्त्री [अनौपनिधिकी] आनु-  
पूर्व का एक भेद, क्रम-विशेष (अणु) ।  
अणोवणिहिया स्त्री [अनुपनिहिता] ऊपर  
देखो (पि ७७) ।  
अणोह वि [अनाद्रे] १ शुष्क, सूखा हुआ  
(गा ५४१) । °मण वि [°मनस्क] अकरण,  
निष्कृत, निर्दय (काप्र ८६) ।  
अणोवदग्ग वि [अनवदग्ग] अनन्त (सूम १,  
१२, ६) ।  
अणोवम वि [अनुपम] उपमा-रहित, अदि-  
तीय (पठम ७६, २६, सुर ३, १३०) ।  
अणोवमिय वि [अनुपमित] ऊपर देखो  
(पठम २, ६३) ।  
अणोवसंखा स्त्री [अनुपसंख्या] अज्ञान,  
सत्य ज्ञान का अभाव (सूम २, १२) ।  
अणोवहिय वि [अनुपधिक] १ परिग्रह-  
रहित, सतोपी । २ सरल, अकपटी (आचा) ।  
अणोवाहणग } वि [अनुपानत्क] ज्ञाता-  
अणोवाहणय } रहित, जो ज्ञता न पहिना हो  
(श्रीप; पि ७७) ।

अणोसिय वि [अनुपित] ? जितने वास न किया हो। २ अथवास्वित, 'अणोसिएण न करेइ राक्का' (वर्म ३, सूत्र १ १४)।  
 अणोहतर वि [अनोयन्तर] पार जाने के लिए असमर्थ, 'मुणिएण ह एयं पवेइयं अणो-हंतरा एण, नो य ओह तरित्तए' (आत्रा)।  
 अणोहट्टय वि [अनपघट्टक] निग्कुस्य, स्व-च्छन्दी (साया १, १६)।  
 अणोहीण वि [अनवहीन] हीनता-रहित (पि १२८)।  
 अण्ण सक्क [भुज्] भोजन करना, खाना। अण्णइ (पड्)।  
 अण्ण न [अन्य] दूसरा, पर (प्राप् १३१)।  
 °उत्थिय वि [°निथिक, °यूथिक] अन्य दर्शन का अनुयायी (नम ६०)।  
 °ग्गहण न [°ग्रहण] ? तान के समय होनेवाला एक प्रकार का मुख-विकार। १ पु गानेवाला, गान्वाविक, गवैया (निच् १७)।  
 °धम्मिय वि [°धार्मिक] भिन्न धर्म वाला (श्रोव १५)।  
 अण्ण न [अन्न] १ नाज, चावल आदि वान्य (सूत्र १, ४, २)। २ नञ्य पदार्थ (उत्त २०)। ३ भक्षण, भोजन (सूत्र १, २)।  
 °इलाय, °गिलाय वि [°ग्लायक] वासी अन्न को खानेवाला (श्रीप. भग १६, ३)।  
 °विहि पुन्नी [°विधि] पाक-कला (श्रीप)।  
 अण्ण न [अर्णस्] पानी, जल (उत्त ५)।  
 अण्ण वि [दे] १ आरोपित। २ खरिडत (पड्)।  
 °अण्ण देखो कण्ण = कर्ण (गा ५६४, कप्पु)।  
 अण्णअ पुं [दे] १ जवान, तल्ल। २ वृत्त, ठग। ३ देवर (दे १, ५५)।  
 अण्णइअ वि [दे] १ तृप्त (दे १, १६)। २ सब विषयो में तृप्त, सर्वार्थ-तृप्त (पड्)।  
 अण्णओ अ [अन्यतस्] दूसरे से, दूसरी तरफ (उत्त १)। देखो अन्नओ।  
 अण्णण वि [अन्योन्य] परस्पर, आपस में (पड्)।  
 अण्णण्ण वि [अन्यान्य] श्रीर श्रीर, अलग-अलग,  
 'अण्णण्णण्ण उव्वेता,  
 संसारवहम्मि रिण्वसारम्मि।

मएणति धीरहियआ,  
 वड्डुआणाईव कुनाई' (गड्ड)।  
 अण्णत्त अ [अन्यत्र] दूसरे में, भिन्न स्थान में (गा ६५५)।  
 अण्णत्ति ली [दे] अक्ता, अपमान, निरादर (दे १, १७)।  
 अण्णत्तो देखो अण्णओ (गा ६३६)।  
 अण्णत्थ देखो अण्णत्त (विपा १, २)।  
 अण्णत्थ वि [अन्यस्थ] दूसरे (स्थान) में रहा हुआ (गा ५५०)।  
 अण्णत्थ वि [अन्वर्थ] यथायं, यथा नाम तथा गुण वाना, 'ठियमएणत्थे तथयनिर-वेक्खं' (विसे)।  
 अण्णमण्ण देखो अण्णण्ण = अन्योन्य, 'अण्ण-मण्णमण्णरत्तया' (साया १, २)।  
 अण्णमय वि [दे] पुनरुक्त, फिर से कहा हुआ (दे १, २८)।  
 अण्णय देखो अन्नय (वर्मसं ३६२)।  
 अण्णय्यर वि [अन्यतर] दो में से कोई एक (कप्प)।  
 अण्णया अ [अन्यदा] कोई समय में (उत्त ६ टी)।  
 अण्णव पु [अर्णव] १ मयुद्ध। २ सञ्चार, 'अण्णवसि महोघसि एणे तिएणे दुत्तरे' (उत्त ५)।  
 अण्णव न [अण्णवत्त] एक लोकोत्तर मुहूर्त्त का नाम (जं ७)।  
 अण्णह न [अन्वह] प्रतिदिन, हमेशा (वर्म १)।  
 अण्णह देखो अण्णत्त (पड्)।  
 अण्णह } अ [अन्यथा] अन्य प्रकार से,  
 अण्णहा } विपरीत रीति से, उलटा (पड्, महा)।  
 °भाव पुं [°भाव] वैपरीत्य, उलटा-पन (वृह ४)।  
 अण्णहि देखो अण्णत्त (पड्)।  
 अण्णा ली [आज्ञा] आज्ञा, आदेश (गा २३, अमि ६३, मुद्रा ५७)।  
 अण्णाइट्ट वि [अन्वादिष्ट] आदिष्ट, जिसको आदेश दिया गया हो वह; 'अण्णुएण मालागारे मोग्गएणिएणा जक्केणं अण्णाइट्टे समणे' (अंत २०)।

अण्णाइट्ट वि [अन्वादिष्ट] १ व्याप्त (भा १४, १)। २ पराधीन, परवश (भग १८ ६)।  
 अण्णाइस (अप) वि [अन्यादृश] दूसरे के जैसा (पि २४५)।  
 अण्णाण न [अज्ञान] १ अज्ञान, अज्ञानकारी, मूर्खता (दे १, ७)। २ मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान (भग ८, २)। ३ वि ज्ञान-रहित, मूर्ख (ना १, ६)।  
 अण्णाण न [दे] दाय, विवाह-दान में वधु को अथवा वर को जो दान दिया जाता है वह (दे १, ७)।  
 अण्णाणि वि [अज्ञानिन] १ ज्ञान रहित, मूर्ख (सूत्र १, ७)। २ मिथ्या-ज्ञानी (पंच १)। ३ अज्ञान को ही श्रेयस्कर माननेवाला, अज्ञान-वादी (सूत्र १, १२)।  
 अण्णाणिय वि [आज्ञानिक] १ अज्ञानवादी, अज्ञानवाद का अनुयायी (भाव ६, सम १०६)। २ मूर्ख, अज्ञानी (सूत्र १, १, २)।  
 अण्णाय वि [अज्ञात] अविदित, नही जाना हुआ (पएह २ १)।  
 अण्णाय पुं [अन्नाय] न्याय का अभाव (आ १२)।  
 अण्णाय वि [दे] आर्द्र, नीला (वे ४, ६)।  
 अण्णाय वि [अन्याय्य] न्याय से च्युत, न्याय-विच्छेद; 'जे विग्गहीए अण्णायनासी, न मे समे होइ अण्णपत्ते' (सूत्र १, १३)।  
 अण्णाय्य (श्री) ऊपर देखो (मा २०)।  
 अण्णारिच्छ वि [अन्यादृत्] दूसरे के जैसा (प्रामा)।  
 अण्णारिस वि [अन्यादृश] दूसरे के जैसा (पि २४५)।  
 अण्णासय वि [दे] विस्तृत, विछाया हुआ (पड्)।  
 अण्णिज्जमाण देखो अण्णे।  
 अण्णिय वि [अन्वित] युक्त, सहित (सूत्र १, १०, नाट)।  
 अण्णिया ली [दे] देखो अण्णी (दे १, ५१)।  
 अण्णिया ली [अन्निका] एक विख्यात जैन मुनि की माता का नाम (ती ३६)।  
 °उत्त पु [°पुत्र] एक विख्यात जैन मुनि (ती ३६)।

अण्णी स्त्री [दे] १ देवर की स्त्री । २ पति की बहिन, ननद । ३ फूफा, पिता की बहिन (दे १, ५१) ।

अण्णु- } वि [अज्ञ] अज्ञान, निर्बोध, मूर्ख  
अण्णुअ } (पङ्, गा १८४) ।

अण्णुण्ण वि [अन्योन्य] परस्पर, आपस में (गण्ड) ।

अण्णूण वि [अन्यून] परिपूर्ण (उप पृ २२४) ।

अण्णे सक [अनु + इ] अनुसरण करना । अण्णोइ (विसे २५२६) । अण्णोति (पि ४६३) । वक्क अण्णज्जमाणः (अन्वीयमान) (विपा १, १) ।

अण्णोस सक [अनु + इप्] १ खोजना, हूँटना, तहकीकात करना । २ चाहना, वाछना । ३ प्रार्थना करना । अण्णोसइ (पि १६३) । वक्क अण्णोसत, अण्णोसअत, अण्णोसमाण (महा, काल) ।

अण्णोसण न [अन्वेपण] खोज, तलाश, तहकीकात (उप ६ टी) ।

अण्णोसणा स्त्री [अन्वेपणा] १ खोज, तहकीकात (प्राप) । २ प्रार्थना (प्राचा) । ३ गृहस्थ से दी जाती निज्ञा का ग्रहण (ठा, ३, ४) ।

अण्णोसय वि [अन्वेपक] गवेपक (पव ७१) ।

अण्णोसि वि [अन्वेपिन] खोज करनेवाला (प्राचा) ।

अण्णोसिय वि [अन्वेपित] जिसकी तहकीकात की गई हो वह, 'अण्णोसिया सव्वभो तुम्मे न कर्हिचि दिट्ठा' (महा) ।

अण्णोण्ण देखो अण्णुण्ण, 'अण्णोरण्णमण्णु-चदं णिच्छयमो मण्णियविसय तु' (पचा ६, म्वन ५२) ।

अण्णोसरिअ वि [दे] अतिक्रान्त, उल्लंघित (दे १, ३६) ।

अण्ह सक [अण्णु] १ खाना, भोजन करना । २ पालन करना । ३ ग्रहण करना । अण्हइ (हे ४, ११०, पङ्) । अण्हइ (श्रीप) । अण्हए (कुमा) ।

अण्ह न [अहन्] दिवस, दिन, 'पूवावरणह-कालसमयाधि' (उवा) ।

अण्हग } पु [आश्रय] कर्म-वच के कारण  
अण्हय } हिसादि (परह १, १, ५, श्रीप) ।  
अण्हो स्त्री [वृष्णा] तृषा, प्यास (गा ६३) ।  
अण्होअ वि [दे] भ्रान्त, भूला हुआ (दे १, २१) ।

अतक्किय वि [अतर्कित] १ अचिन्तित, आकस्मिक, 'अतक्कियमेव एरिस वसणमह पत्ता' (महा) । २ ठीक-ठीक नहीं देखा हुआ, अपरिलक्षित (वव ८) । ३ क्वि वि 'अतक्किय चैव विहरिओ रायहत्थी' (महा) ।

अतठ वि [अतट] छोटा किनारा, 'अतठुव वातो सो चैव मग्गो' (वृह १) ।

अतण्हाअ वि [अतृष्णाक] तृष्णा रहित, निस्पृह (अण्णु ६४) ।

अतत्त न [अतत्त्व] असत्य, झूठ, गैरव्याजवी (उप ५०८) ।

अतत्थ वि [अत्रस्त] नहीं डरा हुआ, निर्भीक (कुमा) ।

अतत्थ वि [अतथ्य] असत्य, झूठा (प्राचा) ।  
अतर देखो अयर (पव १, कम्म ५, भवि) ।

अतव पुन [अतपस्] १ तपस्वर्या का अभाव (उत्त २३) । २ वि तप-रहित (वृह ४) ।

अतव पं [अस्तव] अ-प्रशंसा, निन्दा (कुमा) ।  
अतसी देखो अयसी (परण १) ।

अतह वि [अतथ] असत्य, अ-चान्त्विक, झूठा (सूत्र १, १, २, प्राचा) ।

अतह वि [अतथा] उस माफिक नहीं, 'जामो चिय कायच्चे च्छ्यहेति गच्छयाण कित्तीओ ।

तामो चिय अतह-णियेयणो अलमेति हिययाइ' (गण्ड) ।

अतार वि [अतार] तरने को अशक्य (राया १, ६, १४) ।

अतारिम वि [अतारिम] ऊपर देखो (सूत्र १, ३, २) ।

अतिउट्ट सक [अति + उट्ट] १ खूब हटना, हट जाना । २ सब वचन से मुक्त होना । अतिउट्टइ (सूत्र १, १५, ५) ।

अतिउट्ट सक [अति + वृत्] १ उल्लघन करना । २ व्याप्त होना । अतिउट्टइ (सूत्र १, १५, ६ टी) ।

अतिउट्ट वि [अतिवृत्त] १ अतिक्रान्त । २

अनुगत, ध्याप्त, 'जसी गुहाए जलणेतिउट्टे अविजाणओ डम्भइ लुत्तपरणो' (सूत्र १, ५, १, १२) ।

अतित्थ न [अतीर्थ] १ तीर्थ (चतुर्विध संघ) का अभाव, तीर्थ की अनुत्पत्ति । २ वह काल, जिसमें तीर्थ की प्रवृत्ति न हुई हो या उसका अभाव रहा हो (परण १) । अतिउट्ट वि [अतिउट्ट] अतीर्थ काल में जो मुक्त हुआ हो वह, 'अतित्थसिद्धा य मत्तदेवी' (नव ५६) ।

अतिहि देखो अइहि ।

अतीगाढ वि [अतिगाढ] १ अति-निविड । २ क्वि अत्यंत, बहुत, 'अतीगाढ भोओ जक्खाहिवो' (पठम ८, ११३) ।

अतुल वि [अतुल] अनुपम, असाधारण (परह १, १) ।

अतुलिय वि [अतुलित] असाधारण, अद्वितीय (भवि) ।

अत्त देखो अप्प = आत्मन् (सुर ३, १७४; सम ५७, रादि) । अत्तम पु [अत्तम] स्वल्प की प्राप्ति, उत्पत्ति (कम्म २, २५) ।

अत्त वि [आत्त] पीडित, दुःखित, हैरान (सुर ३, १४३, कुमा) ।

अत्त वि [आत्त] १ गृहीत, लिया हुआ (राया १, १) । २ स्वीकृत, मजूर किया हुआ (ठा २, ३) । ३ पु जानी मुनि (वृह १) ।

अत्त वि [आत्त] १ ज्ञानादि-गुण-संपन्न, गुणी । २ राग-द्वेष वजित, वीतराग । ३ प्रायश्चित्त-दाता गुरु,

'नाणमादीणि अत्ताणि, जेण अत्तो उ सो भवे । रागदोसपहोणो वा, जे व इट्ठा विओहिण' (वव १०) । ४ मोक्ष, मुक्ति (सूत्र १, १०) । ५ एकान्त हितकर (भग १४, ६) । ६ प्राप्त, मिना हुआ (वव १०), 'अत्तप्पसरणत्तेम्मे' (उत्त १२) ।

अत्त वि [आत्त] दुःख का नाश करनेवाला, सुख का उत्पादक (भग १४, ६) ।

अत्त अ [अत्त] यहा, इस स्थान में (नाट) । अत्त वि [अत्त] पूज्य, माननीय (अभि ६१, पि २६३) ।

अत्तअ देखो अत्तय = अत्यय (प्राह २१) ।

अत्तकम्म वि [आत्मकर्मन्] १ जिससे कर्म-

वचन हो वह । २ पुं श्रापकर्म दोष (पिड ६५) ।

अत्तट्टु वि [आत्मार्थ] ? आत्मीय, स्वकीय (धर्म २) । २ पु स्वार्थ, 'इह कामनियत्तस्य अत्तट्टे नावरज्जइ' (उत्त ८) ।

अत्तट्टिय वि [आत्माधिक] ? आत्मीय । २ जो अपने लिए किया गया हो, 'उवक्कड भोयण माहण्णं अत्तट्टिय सिट्टमहेगपक्क' (उत्त १२) ।

अत्तण } देखो अप्प = आत्मन् (मृच्छ  
अत्तणअ } २३६) । °करक वि [आत्मीय]  
निजी, स्वकीय (नाट, पि ४०१) ।

अत्तणअ } (शो) वि [आत्मीय] स्वकीय,  
अत्तणक } अचना, निजका (पि २७७, नाट) ।  
अत्तणिल्लिय वि [आत्मीय] स्वकीय (ठा ३, १) ।

अत्तणीअ (शो) ऊपर देखो (स्वप्न २७) ।

अत्तमाण देखो आवत्त = आ + वृत् ।

अत्तय पुं [आत्मज] पुत्र, लडका । °या लो  
[°जा] पुत्री, लडकी (विपा १ १) ।

अत्तव्य वि [अत्तव्य] पाने लायक, भक्ष्य (नाट) ।

अत्ता ली [दे] ? माता, माँ (दे १, ५१,  
चार ७०) । २ मामू (दे १, ५१, गा ६६७,  
हेका २०) । ३ पूमा । ४ सबी (दे १, ९१) ।

°अत्ता देखो जत्ता (प्रति ८२) ।

अत्ताण देखो अत्त = आत्मन्, (पि ४०१) ।

अत्ताण वि [अत्ताण] ? शरण-रहित, रसक-  
बाँजित (परह १, १) । २ पुं. कन्वे पर लठी  
रखकर चलनेवाला मुसाफिर । ३ फटे-टूटे कपडे  
पहनकर मुसाफिरी करनेवाला यात्री (वृह १) ।  
अत्ति पुं [अत्ति] इत्त नाम का एक ऋषि  
(गडड) ।

अत्ति ली [अत्ति] पीछा, दु ख (कुमा, मुपा  
१८५) । °हर वि [°हर] पीढानायक, दु ख  
का नाश करनेवाला (अग्नि १०३) ।

अत्तिहरी ली [दे] हूती, समाचार पहचाने-  
वाली ली (पड) ।

अत्तीकर सक [आत्मी + कृ] अपने अचीन  
करना, वश करना । अत्तीकरेड, वड अत्ती-  
करत (निवू ४) ।

अत्तीकरण न [आत्मीकरण] अपने वश  
करना (निवू ४) ।

अत्तुक्करिन } पु [आत्मोत्कर्ष] अभिमान,  
अत्तुक्कोम } गर्व, 'तम्हा अत्तुक्करिनो वजे-  
यथा जइण्णेण' (सुत्त १, १३, सम ७१) ।

अत्तुक्कोसिय वि [आत्मोत्कर्षिक] गविष्ठ,  
अभिमानी (श्रीप) ।

अत्तेय पुं [आत्रेय] ? अत्रि ऋषि का पुत्र  
(पि १०, ८३) । २ एक जैन मुनि (विसे  
२७२९) ।

अत्तो अ [अनम्] ? इससे, हम हेतु से  
(गडड) । २ यहा से (प्राभा) ।

अत्य देखो अट्ट = अर्थ (कुमा, ल ७२८,  
८८४ टी, जी १, प्रा ६५, गडड), 'अरोड-  
अत्ये कहिए विलावो' (गोय ७), 'अत्तसहो  
फल्लयोय' (विसे १०३६, १२४३) । °जोणि  
ली [°जोनि] धनोपाजन का उपाय, नाम,  
दाम, दरह ह्य अर्थ-नीति (ठा ३, ३) । °णय  
पु [°णय] शब्द को छोड अर्थ को ही मुख्य  
वस्तु माननेवाला पक्ष (अणु) । °सत्य न  
[शास्त्र] अर्थ शास्त्र, संपत्ति-शास्त्र (गाया १,  
१) । °वड पुं [°पति] ? धनी । २ कुत्रे  
(वव ७) । °वाय पु [°वाड] ? गुणवर्णन ।

२ दोष-निष्पण । ३ गुण-वाचक शब्द । ४  
दोष-वाचक शब्द (विसे) । °वि वि [°वित्त]  
अर्थ का जानकार (पिड १ भा) । °सिद्ध वि  
[°सिद्ध] ? प्रभूत धनवाला (ज ७) । २  
पु ऐरवत क्षेत्र के एक नावी जिनदेव (तित्त्य) ।

°ल्लिय न [°लीक] धन के लिए असत्य  
बोलना (परह १, २) । °ल्लोयण न  
[°ल्लोचन] पदार्थ का सामान्य ज्ञान (आवू  
१) । °ल्लोयण न [°ल्लोकन] पदार्थ का  
निरीक्षण,

'अत्यालोयण-तरला, डयरकईणं भमति बुद्धीयो ।  
अत्यच्चेय निराग्ममेति हियय कइन्दाण ॥'  
(गडड) ।

अत्य पुं [अस्त] ? जहा सूर्य अस्त होता है  
वह पर्वत (से १०, १०) । २ मेरु पर्वत  
(सम ६५) । ३ वि अविद्यमान (गाया १,  
१३) । °गिरि पुं [°गिरि] अस्ताचल (सुर  
३, २७७, पठम १६, ४५) । °सेल पु  
[°शैल] अस्ताचल (सुर ३, २२६) । °चल  
पु [°चल] अस्त-गिरि (कप्पू) ।

अत्य न [अत्त] हयियार, आयुव (पठम ८,  
७०, से १४, ६१) ।

अत्य मक [अर्थय] भागना, याचना करना,  
प्रार्थना करना, विनक्ति करना । अत्ययए  
(निवू ४) ।

अत्य मक [स्था] वैठना । अत्यव (आरा ७१) ।  
अत्य } देखो अत्त = अत्त (कप्प, पि २६३,  
अर्थ) } ३६१) ।

अत्यडिल वि [अस्थण्डिल] साधुओं के रहने  
के लिए प्रयोग्य स्थान, क्षुद्र जन्तुओं से व्याप्त  
स्थान (श्रीय १३) ।

अत्यंत वड [अस्त यत्] अस्त होता हुआ  
(वजा २२) ।

अत्यकिरिआ ली [अर्थक्रिया] वस्तु का  
व्यापार. पदार्थ में होनेवाली क्रिया (धर्मसं  
४६२) ।

अत्यक न [दे] ? अवारड. अयम्मात्, वे-  
समय (उप ३३०, से ११, २४, या ३०,  
भवि), 'अत्यकगळिउम्मत्तहित्थिअथा पहिम्म-  
जाथा' (गा ३८६) । २ वि. अखिन्न (वजा  
६) । ३ त्रिभि. अनवरत, हमेशा (गडड) ।

अत्यगघ वि [दे] ? मध्य-वर्ती, बीच का-  
'सनए अत्यगघे वा अरोडण्णेनु घण पट्ट' (श्रीव  
३४) । २ अगाव, गनीर । ३ न. लम्बाई,  
आयाम । ४ स्थान, जगह (दे १, ५४) ।

अत्यण न [अर्थन] प्रार्थना, याचना (उप  
७२८ टी) ।

अत्यणिकर पुन [अर्थनिपूर] देखो अच्छ-  
णिकर (अणु २६) ।

अत्यणिकरंग पुंन [अर्थनिपूराङ्ग] देखो  
- अच्छणिकरंग (अणु ६६) ।

अत्यतिय वि [अर्थार्थिन्] धन की इच्छा-  
वाला (उव १३६) ।

अत्यम अक [अस्तम् + इ] अस्त होना, अदृश्य  
होना । अत्यमइ (पि ५५८) । वड. अत्यमंत  
(पठम ८२, ५६) ।

अत्यमण न [अस्तमयन्] अस्त होना, अदृश्य  
होना (श्रीव ९०७, से ८, ८५, गा २८४) ।

अत्यमाविय वि [अस्तमापिन] अस्त कर-  
वाया हुआ (नम्मत्त १६१) ।

अत्यमिय वि [अस्तमित] ? अस्त हुआ,

ह्व गया, अदृश्य हुआ (श्रौष ५०७, महा-  
सुपा १५५) । २ हीन, हानि-प्राप्त (ठा ४, ३) ।  
अत्ययारिआ स्त्री [दे] सती, वयस्या (दे १  
१६) ।

अत्यर सक [आ + स्तृ] विछाना, शय्या  
करना, पसारना । अत्यरइ (उव) । सक  
अत्यरिऊग (महा) ।

अत्यरण न [आस्तरण] १ विछौना, शय्या  
(ने १४, ५०) । २ विछाना, शय्या करना  
(विने २३२२) ।

अत्यरय वि [आस्तरक] १ आच्छादन करते-  
वाला (राय) । २ पु विछौने के ऊपर का  
वज्र (भग ११, ११, कम्प) ।

अत्यरय वि [अस्तरजस्क] निर्मल, शुद्ध (भग  
११, ११) ।

अत्यवण देखो अत्यमण (भवि) ।

अत्यसिद्ध पु [अर्थसिद्ध] पक्ष का दशवां  
दिवस, दशमी तिथि (सुव १०, १४) ।

अत्या देखो अट्टा = आस्था ।

अत्या } सक [अस्ताय] अस्त होना,  
अत्याअ } ह्व जाना, अदृश्य होना । अत्याइ,  
अत्याए (पठम ७३, ३५) । अत्याप्रति (ने  
७, २३) । वक्र अत्याअत (से ७, ६६) ।

अत्याअ वि [अस्तमित] अस्त हुआ, हवा  
हुआ 'तावचिप दिवसयरो अत्याप्रो विगयकि-  
रणसघामो' (पठम १०, ६६, से ६, ५२) ।

अत्याइया स्त्री [दे] गोष्ठी-मण्डप (स ३६) ।

अत्याण न [आस्थान] सभा, सभा-स्थान  
(सुर १, ८०) ।

अत्याणिय वि [अस्थानिन्] गैर-स्थान मे  
लगा हुआ, 'अत्याणियनयणहि' (भवि) ।

अत्याणी स्त्री [आस्थानी] समा-स्थान (कुमा) ।  
अत्याणीअ वि [आस्थानीय] समा-सवन्वी  
(कुप्र ७८) ।

अत्याम वि [अस्थामन्] बल-रहित, निर्बल  
(राया १, १) ।

अत्यार पु [दे] सहायता, साहाय्य (दे १, ६,  
राय) ।

अत्यारिय पु [दे] नौकर, कर्मचारी (वव ६) ।

अत्यावगह देखो अत्युगह (पण ५) ।

अत्यावत्ति स्त्री [अर्थापत्ति] अनुक्त अर्थ को  
भटकल से समझना, एक प्रकार का अनुमान-

ज्ञान जैसे 'देवदत्त पुट्ट है और दिन मे नही  
खाता है' इस वाक्य मे 'देवदत्त रात मे खाता  
है' ऐसा अनुक्त अर्थ का ज्ञान (उप ६६८) ।

अत्याह वि [अस्ताघ] १ अयाह, धाह-रहित,  
गभीर (राया १, १४) । २ नासिका के ऊपर  
का भाग भी जिसमे ह्व सके इतना गहरा  
जलाशय (वृह ४) । ३ पु अतीत चौबीसी  
मे भारत मे समुत्पन्न इस नाम के एक तीर्थकर-  
देव (पव ६) ।

अत्याह वि [दे] देवो अत्यगघ (दे १, ५४,  
भवि) ।

अत्यि वि [अर्थिन्] १ याचक, मांगनेवाला  
(सुर १०, १००) । २ घनी, घनवाला (पंचा) ।  
३ मालिक, स्वामी (विसे) । ४ गरजू, चाहने-  
वाला;

'अणभो अणत्यियाण, कामत्यीण च  
सव्वकामकरो ।  
सग्गापवग्गसामहेऊ जिणुदेसिओ घम्मो ।'  
(महा) ।

अत्यि न [अस्यि] हाड, हड्डी (महा) ।

अत्यि अ [अस्ति] १ सत्त्व-सूचक अव्यय है,  
'अत्येगइया मुंडा भवित्ता अगाराओ अणगारिय  
पव्वइया' (श्रौष), 'अत्यि एं भते । विमाणइ'  
(जीव ३) । २ प्रदेश, अवयव, 'चत्तारि अत्यि-  
काया' (ठा ४, ४) । °अवत्तव्व वि [°अव-  
क्तव्य] मत्तभङ्गी का पाचवां भङ्ग, स्वकीय  
द्रव्य आदि की अपेक्षा मे विद्यमान और एक  
ही साथ कहने को अशक्य पदार्थ,  
'सव्भावे आइट्ठो देसो देसो अ उमयहा जस्स ।  
त अत्यिअवत्तव्व च होइ दविअ विअप्पवसा'  
(सम्म ३८) ।

°काय पु [°काय] प्रदेशो का—अवयवो का  
समूह (सम १०) । °णत्यवत्तव्व वि  
[°नास्त्यवक्तव्य] सत्तभङ्गी का सातवां  
भङ्ग, स्वकीय द्रव्यादि की अपेक्षा से विद्यमान,  
परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा से अविद्यमान और  
एक ही समय मे दोनो घमों से कहने को  
अशक्य पदार्थ,  
'मव्भावासव्भावे, देसो देसो अ उमयहा जस्स ।  
त अत्यिणुत्पवत्तव्व च दविअं विअप्पवसा'  
(सम्म ४०) ।

°त्त न [°त्व] सत्व, विद्यमानता, हयाती

(सुर २, १४२) । °त्ता स्त्री [°ता] सत्व,  
हयाती (उप पृ ३७४) । °त्तिनय पु [°इति-  
नय] द्रव्याधिक नय (विसे ५३७) । °नत्यि  
वि [°नारित] सत्तभङ्गी का तीसरा भङ्ग—  
प्रकार, स्वद्रव्यादि की अपेक्षा से विद्यमान  
और परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा मे अविद्य-  
मान वस्तु,

'अह देसो सव्भावे देसोसव्भावपजवे निअओ ।  
त दविअमत्यिनत्यि अ, आएसवित्तेसिअ जम्हा'  
(सम्म ३७) ।

°नत्यिप्पवाय न [°नास्तिप्रवाद] वास्त्व  
जैन अङ्ग-ग्रन्थ का एक भाग, चौथा पूर्व (सम  
२६) ।

अत्यिअ न [आस्तिक्य] आस्तिकता, आत्मा-  
परलोक आदि पर विश्वास (आ २, पुष्प  
११०) ।

अत्यिय देखो अत्यि = अर्थिन् (महा, श्रौष) ।  
अत्यिय वि [अर्थिक] घनी, घनवान् (हे २,  
१५६) ।

अत्यिय न [अस्थिक] १ हड्डी, हाड । २ पु  
बुध-विरोध । ३ न वह वीजवाला फल-विरोध  
(पण १) ।

अत्यिय वि [आस्तिक] आत्मा, परलोक  
आदि की हयाती पर अद्धा रखनेवाला  
(घमं २) ।

अत्यिर देखो अथिर (पंचा १२) ।

अत्यीकर सक [अर्थी + कृ] प्रार्थना करना,  
याचना करना । अत्यीकरइ (निचू ४) । वक्र-  
अत्यीकरत (निचू ४) ।

अत्यीकरण न [अर्थीकरण] प्रार्थना, याचना  
(निचू ४) ।

अत्यु मक [आ+स्तृ] विछाना, शय्या करना ।  
कर्म अत्युव्वइ, कवक अत्युव्वत (विसे  
२३२१) ।

अत्युअ वि [आस्तृत्] विछाया हुआ (पाअ-  
विसे २३२१) ।

अत्युगह पु [अर्थावग्रह] इन्द्रियां और मन  
द्वारा होनेवाला ज्ञान-विरोध, निर्विकल्पक ज्ञान  
(सम ११, ठा २, १) ।

अत्युगहण न [अर्थावग्रहण] फन का निश्चय  
(भग ११, ११) ।

अत्युड वि [दे] लघु, छोटा, (दे १, ६) ।

अथुरण न [दे आस्तरण] विद्यौना (न - ६७) ।

अथुरिय वि [दे आस्तरुत] विद्याया हुआ (न २३-३, दे १, ११३) ।

अथुवड न [दे] म्लानक, भिनावां वृज का फन (दे १, २३) ।

अत्येक वि [दे] आकम्पिक, अचिन्तित (न १२, ४६) ।

अत्योगाह देवो अत्युगाह (मम ११) ।

अत्योगाहण देवो अत्युगाहण (मम ११, ११) ।

अत्योडिय वि [दे] आकृष्ट, लोचा हुआ (महा) ।

अत्योभय वि [अस्तोभक] 'अन्', 'वि' आदि निरर्थक शब्दों के प्रयोग से अद्विपित (सूत्र) (वृह १) ।

अत्योवगाह देवो अत्युगाह (परण १५) ।

अथक न [दे] १ अकारण, अनवमर, अकन्मात् (पड्) । २ वि पनरनेवाना, फेननेवाना (कुमा) ।

अथञ्चण पु [अथर्वण] चौया वेद-शास्त्र (नप्, राया १, ५) ।

अथिर वि [अस्थिर] १ चचल, चपल (कुमा) । २ अनिय, विनय (कुमा) । ३ अदृढ, शिथिल (शोध) । ४ निर्बल (वव २) । ५ मजदूती मे नहो बैठा हुआ, नहो जमा हुआ (अन्याम) । 'अथिरस्स पुत्रगहियस्स, वतणा जं च्छु पिरीकरण' (पचा १२) । 'गाम न [नामन्] नाम-कर्म का एक भेद (सम ६७) ।

'अद् सक [अद्] खाना, भोजन करना । अदइ, अदए (पड्) ।

अदसण देवो अदंसण (पचमा) ।

अदसण पु [दे] चोर, डाकू (दे १, २६, पड्) ।

अदसिया स्त्री [अदशिका] एक प्रकार की मोठी चीज (परण १७) ।

अदक्खु वि [अदृष्ट] १ नहीं देखा हुआ । २ असर्वज्ञ (सूत्र १, २, ३) ।

अदक्खु वि [अदक्ष] अनिपुण, अकुशल (सूत्र १, २, ३) ।

अदक्खु वि [अदश्य] १ नहीं देखनेवाना,

अन्वा । २ असर्वज्ञ, 'अदक्खुव । दक्खुवाहिय सट्ठहनु अदक्खुदंमणा' (सूत्र १, २, ३) ।

अदण न [अदण] भोजन (वृह १) ।

अदत्त वि [अदत्त] नहीं दिया हुआ (परण १, ३) । 'हारि वि [हार] चोर (आचा) ।

'हारि वि [हारिन्] चोर (सूत्र १, ५, १) । 'दाण न [दान] चोरो (मम १०) ।

'दाणवेरमण न [दानविरमण] चोरो से निवृत्ति तृतीय व्रत (परह २, ३) ।

अदन्न देवो अदण्ण (सिदि ३१०) ।

अदच्चम वि [अदच्च] अनल्प, बहुत (जं ३) ।

अदय वि [अदय] निर्दय, निष्ठुर (निचू २) ।

अदिइ देवो अइइ (ठा २, ३) ।

अदिण्ण देवो अदत्त (ठा १) ।

अदित्त वि [अदित्त] १ दर्प-रहित, नम्र (वृह १) । २ आहिसक (शोध ३०२) ।

अदिन्न देवो अदत्त (सम १०) ।

अदिस्स देवो अदिस्स (सम ६०, मुपा १५३) ।

अदिहि स्त्री [अधृति] अवीराई, वीरज का अभाव (पात्र) ।

अदीण वि [अदीण] दीनता-रहित । 'सत्तु पुं [अत्तु] हस्तिनापुर का एक राजा (राया १, ८) ।

अदु अ [दे] १ आनन्तर्य-सूचक अव्यय, अत्र (आचा) । २ इससे (सूत्र १, २, २) ।

अदु अ [दे] १ अथवा, या (सूत्र १, ५, २, १५, उत ८, १२, वसञ्ज २, १४) । २ अधिकारान्तर का सूचक (सूत्र १, ४, २, ७) ।

अदुत्तरं अ [दे] आनन्तर्य-सूचक अव्यय, अत्र, वाद (राया १, १) ।

अदुय न [अदुय] अ-शीघ्र, वीरे-वीरे (मग ७, ६) 'वधण न [वन्धन] दीर्घ काल के लिए बन्धन (सूत्र २, २) ।

अदुव } अ [दे] या, अथवा, और, 'हितेअ अदुवा } पाणभूयाई, तमे अदुव धावरे' (दस ५, ५, आचा) ।

अदोलि } वि [अदोलिन्] स्थिर, निश्चल अदोलि } (कुमा) ।

अह वि [आह] १ गोला, मीठा हुआ, अकठिन (कुमा) । २ पुं. इस नाम का एक

राजा । ३ एक प्रसिद्ध राजकुमार और पीछे से जैन मुनि । ४ वि आह राजा के वंशज । ५

नगर-विशेष (सूत्र २, ६) । 'कुमार पु [कुमार] एक राजकुमार और वाद में जैन

मुनि, 'अहकुमारो दहण्यहारो अ' (पहि) । 'मुत्था स्त्री [मुस्ता] कन्द-विशेष, नागर

मीथा (अ २०) । 'मल्ला न [मलक] १ हरा आमला । २ पीछु-वृक्ष की कली (धर्म २) । ३ शण वृक्ष की कली (पव ४) । 'रिट्ठु पुं [रिट्ठ] कमल कौआ (आवम) ।

अह पु [अह] १ मेघ, वर्षा, बारिश (हि २, ७६) । २ वर्ष, सवत्तर, सवत् (सुर १३, ७०) ।

अह पु [अह] आकाश (मग २०, २) ।

अह पुन [दे] १ पच्छिम । २ वर्षान (मंति ४७) ।

अह सक [अह] भारता, पीटना (वव १०) ।

अहइअ न [अहइत] १-भेद का अभाव । २ वि. भेद-रहित ब्रह्म वगैरह (नाट) ।

अहइज्ज वि [आहइय] १ आह कुमार-सम्बन्धी । २ इस नाम का 'सूत्रकृताङ्ग' सूत्र का एक अव्ययन (सूत्र २, ६) ।

अहसण न [अदर्शन] १ दर्शन का निषेध, नहीं देखना (सुर ७, २४८) । २ वि परोक्ष, जिसका दर्शन न हो, 'एकपएच्चिय हाहिति मज्जक अद्वंदंणा इहिह' (सुपा ६१७) । ३ नहीं देखनेवाला, अन्वा । ४ 'धीएहो' या अत्रम निद्रा वाला (गच्छ १, पव १०७) । 'भीअ, 'भीय वि [भीत] जो अदृश्य हुआ हो (सुर १०, ५६, महा) ।

अहण } वि [दे] आकुल, व्याकुल (दे १, अहण्ण } १२, वृह १, निचू १०) ।

अहण देवो अहण्ण (मुख १, १४) ।

अहव वि [आहव] गला हुआ (आव ६) ।

अहव्य न [अहव्य] अवस्तु, वस्तु का अभाव, (पचा ३) ।

अहइ सक [आ + अह] उवाचना, पानी-नील वगैरह को सूख गरम करना । अहइइ, अहइहिमि; संह अहइचा (उवा) ।

अहहिय वि [आहित] रखा हुआ, स्थापित (विपां १, ६) ।

अहा ली [आर्द्रा] १ नक्षत्र-विशेष (सम २)। २ छन्द-विशेष (पिंग)।

अहाअ पु [दे] १ आदर्श, दर्पण (दे १, १४, परण १५, निरु १३)। ०पसिण पुं [प्रअ] विद्या-विशेष, जिससे दर्पण में देवता का आगमन होता है (ठा १०)। ०विज्ञा ली [विद्या] चिकित्सा का एक प्रकार, जिससे बीमार को दर्पण में प्रतिबिम्बित कराने से वह नीरोग होता है (वव ५)।

अहाइअ वि [दे] आदर्श वाला, आदर्श से पवित्र (वृह १)।

अहाग [दे] देखो अहाअ (सम १२३)।

अहि पु [अद्रि] पहाड, पर्वत (गण्ड)।

अहिट्ट वि [अट्ट] १ नहीं देखा हुआ (सुर १, १७२)। २ दर्शन का अविषय (नम्म ६६)।

अहिय वि [आर्द्रित] आर्द्र किया हुआ सिंगाया हुआ (विक्र २३)।

अहिय वि [अर्द्रित] पीटा हुआ, पीड़ित (वव १०)।

अहिस्स वि [अट्टय] देखने के अयोग्य या अशक्य (सुर ६, १२०, सुवा ८५, आ २७)।

अहिस्संत } वक्र. [अट्टयमान] नहीं  
अहिस्समाण } दिखता हुआ (सुपा १५४, ४५७)।

अहीण वि [अद्रीण] क्षोभ को अप्राप्त, अनुभव, निर्भीक (पण्ड २, १)।

अहीण देखो अदीण (शोध ५३७)।

अद्धुमाअ वि [दे] पूर्ण, भरा हुआ (पड्)।

अहेस वि [अट्टय] देखने के अशक्य (न १७०)।

अहेसीकारिणी ली [अट्टयकारिणी] अट्टय बनानेवाली विद्या (सुपा ४५४)।

अहेसीकरण वि [अट्टयकरण] १ अट्टय करना। २ अट्टय करनेवाली विद्या, 'किपुरण विवासिज्जा अहेसीकरणसगमो वावि' (सुपा ४५५)।

अहोहि वि [अद्रोहिन्] द्रोह-रहित, द्वेष-वर्जित (धर्म ३)।

अद्ध पुन [अर्ध] १ आधा (कुमा)। २ खण्ड, अंश (पि ४०२)। ०करिस पु [कर्प] परिमाण-विशेष, फल का आठवाँ भाग (अणु)।

०कुडव, ०कुलव पुं [कुडव, ०कुलव] एक प्रकार का घान्य का परिमाण (राय)।

०क्खेत्त न [क्खेत्र] एक अहोरात्र में चन्द्र के साथ योग प्राप्त करनेवाला नक्षत्र (चद १०)। ०खल्ला ली [खल्वा] एक प्रकार का जूता (वृह ३)। ०घटय पुं [घटक] आधा परिमाणवाला घडा, छोटा घडा (उवा)।

०चद् पु [चन्द्र] १ आधा चन्द्र (गा ५७१)। २ गल-हस्त, गला पकड़ कर बाहर करना (उप ७२८ टी)। ३ न. एक हथियार (उप पृ ३६५)। ४ अर्ध चन्द्र के आकारवाले सोपान (रागा १, १)। ५ एक तरह का वाण, 'एसो तुह तिक्खेण सीस छिदामि अद्ध-चदेण' (सुर ८, ३७)। ०चक्खाल न [चक्खाल] गति-विशेष (ठा ७)। ०चक्कि पु [चक्किन्] चक्रवर्ती राजा ने अर्ध विभूति वाला राजा, वासुदेव (कम्म १, १२)।

०च्छट्ट, ०ट्टट्ट वि [पट्ट] साढे पाँच (पि ४५०, सम १००)। ०ट्टम वि [पट्टम] साढे सात (ठा ६)। ०णाराय न [नाराच] चौथा संहनन, शरीर के हाडों की रचना-विशेष (जीव १)। ०णारीसर पु [नारीश्वर] शिव, महादेव (कप्पु)। ०तइय वि [तृतीय] ढाई (पउम ४८, ३५)। ०तेरस वि [त्रयोदश] साढे बारह (भग)। ०तेयन्न वि [त्रिपञ्चाश] साढे बान (सम १-४)। ०द्ध वि [अर्ध] चौथा भाग, पौधा (वृह ३)। ०नवम वि [नवम] साढे आठ (पि ४५०)। ०नाराय देखो ०णाराय (कम्म १, ३८)। ०पचम वि [पञ्चम] साढे चार (सम १०२)। ०पल्लिक वि [पर्यङ्क] आसन-विशेष (ठा ५, १)। ०पहर पुं [प्रहर] ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक कुयोग (गण १८)। ०वव्वर पुं [ववेर] देश-विशेष (पउम २७, ५)। ०मागहा, ०ही स्त्री [मागधी] प्राचीन जैन साहित्य की प्राकृत भाषा, जिसमें मागधी भाषा के भी कोई २ नियम का अनुसरण किया गया है, 'पोराण-मद्धमागहासानियय हवइ सुत्त' (हे ४, २८७, पि १६, सम ६०, पउम २, ३४)। ०मास पु [मास] पक्ष; पनरह दिन (दे १०)। ०मासिय वि [मासिक] -पाक्षिक, पक्ष-सम्बन्धी (महा)। ०यद् देखो ०चद् (उप ७२८

टी)। ०रज्जिय वि [राज्यिक] राज्य का आधा हिस्सेदार, अर्ध राज्य का मालिक (विपा १, ६)। ०रत्त पुं [रात्र] मध्य रात्रि का समय, निशीथ (गा २३१)। ०वेयाली स्त्री [वेताली] विद्या-विशेष (सुअ २, २)। ०सकासिया स्त्री [साकात्रियका] एक राज-कन्या का नाम (आव ४)। ०सम न [सम] एक वृत्त, छन्द-विशेष (ठा ७)। ०हार पु [हार] १ नवसरा हार (राय; श्रौप)। २ इस नाम का एक द्वीप। ३ समुद्र-विशेष (जीव ३)। ०हारभद् [हारभद्र] अर्धहार-द्वीप का अधिष्ठाता देव (जीव ३)। ०हारमहाभद् पुं [हारमहाभद्र] पूर्वोक्त ही अर्थ (जीव ३)। ०हारमहावर पु [हारमहावर] अर्धहार समुद्र का एक अधिष्ठायक देव (जीव ३)। ०हारवर पु [हारवर] १ द्वीप-विशेष। २ समुद्र-विशेष। ३ उनका अधिष्ठायक देव (जीव ३)। ०हारवरभद् पुं [हारवरभद्र] अर्धहारवर द्वीप का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३)। ०हारवरमहावर पुं [हारवरमहावर] अर्धहारवर समुद्र का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३)। ०हारोभास पु [हारावभास] १ द्वीप-विशेष। २ समुद्र-विशेष (जीव ३)। ०हारोभासभद् पुं [हारावभासभद्र] अर्धहारावभास नामक द्वीप का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३)। ०हारोभासमहावर पुं [हारावभासमहावर] अर्धहारावभास नामक समुद्र का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३)। ०हारोभासवर पु [हारावभासवर] देखो पूर्वोक्त अर्थ (जीव ३)। ०इय पु [इक] एक प्रकार का परिमाण, आढक का आधा भाग (ठा ३, १)।

अद्ध पु [अध्वन्] मार्ग, रास्ता (महा, आचा)।

अद्धंत पुं [दे] १ पर्यन्त, अन्त भाग (दे १, १८, से ६, ३२, पाण), 'भरिज्जतमिद्धपहद्धंतो (विक्र १०१)। २ पु व कतिपय, कई एक (से १३, ३२)।

अद्धक्वण न [दे] १ प्रतीक्षा करना, राह देखना (दे १, ३४)। २ परीक्षा करना (दे १, ३४)।



अद्धक्खिअ न [दे] १ संज्ञा करना, झगारना करना, संकेत करना (दे १, ३४)।

अद्धक्खिअ वि [अर्वाञ्चिक] विद्धत आस्र वाला (महानि ३)।

अद्धजंभा } स्त्री [दे अर्धजहु] एक प्रकार  
अद्धजयी } का जूता, मोचक नामक जूता,  
जिसे पुजराती में 'मौजटी' कहते हैं (दे १,  
३३, २५, ६, १३६)।

अद्धदा स्त्री [दे अद्धाद्धा] दिन अथवा रात्रि का एक भाग (सत्त ६ टी)।

अद्धपेडा स्त्री [अर्धपेडा] सन्दूक के अर्ध भाग के आकरवाली गृह-पक्ति में मिश्राटन (उत्त ३०, १६)।

अद्धर पु [अध्वर] यत्न, याग (पाअ)।

अद्धर वि [दे] प्रच्छन्न, गुप्त, 'तम्हा एयस्स चिद्धियमद्धरद्धिओ चैव पिच्छामि, तन्नो राया तपिद्धिलगो' (सम्मत्त १६१)।

अद्धविआर न [दे] १ मण्डन भूषा, 'मा कुण अद्धविआर' (दे १, ४३)। २ मडल, छोटा मडल (दे १, ४३)।

अद्धा स्त्री [दे अद्धा] १ काल, समय, वक्त, (ठा २, १, नव ४२)। २ मकेत (भग ११, ११)। ३ लट्ठि, शक्ति-विशेष (विसे)। ४ अ तत्त्वत, वस्तुतः। ५ साक्षात्, प्रत्यक्ष (पिग)। ६ दिवस। ७ रात्रि (सत्त ६ टी)।

°काल पुं [°काल] सूर्य आदि की क्रिया (परि-त्रमण) में व्यक्त होनेवाला समय, 'सूरकिरिया-विसिद्धो गोदोहाडकिरियानु निरवेक्खो। अद्धा-कालो भएणइ' (विसे)। °छेय पुं [°छेय] समय का एक छोटा परिमाण, दो आवलिका परिमित काल (पच)। °पच्चक्याण न [°प्रत्याख्याण] अमुक समय के लिए कोई व्रत या नियम करना (आच ६)। °मीसयं न [°मिश्रक] एक प्रकार की मय-मृषा भाषा (ठा १०)। मीसिया स्त्री [°मिश्रिता] देवी पूर्वोक्त अर्थ (परण ११)। °समय पु [°समय] सर्व-भूषण काल (परण ४)।

अद्धाण पु [अध्वन्] मार्ग, रास्ता (खाया १, १८, सुर ३, २०७)। °सीसय न [°शीर्षक] मार्ग का अन्त, अटवी आदि का अन्त भाग (वव ४, वृह ३)।

अद्धाण पु [अध्वन्] मार्ग, रास्ता, 'हवइ सलान नरस्स अद्धाण' (मुत्त ८, १३)। °सीसय न [°शीर्षक] जहाँ पर नपूर्ण सार्य के लोग आगे जाने के लिए एकत्र हों वह मार्ग-म्यान (वव ४)।

अद्धाणिय वि [आध्विक] पथिक, मुमाफिर (वृह ४)।

अद्धासिय वि [अध्यासित] १ अविष्टित, आश्रित (सुर ७, २१४, उप २६४ टी)। २ आस्ट (स ६३०)।

अद्धि देखो इड्डि-

'धएणा वहिरधरखा, ते च्चिअ जोअति माणुसे लोए।

एण सुएति खलवअएण, खलाए अद्धि न पेक्खति' (गा ७०४)।

अद्धिइ स्त्री [अधृति] वीरज का अभाव, अवीरज (पचम ११८, ३६)।

अद्धुइअ वि [अर्धोदित] थोड़ा कहा हुआ (पि १५८)।

अद्धुग्घाड वि [अर्धोद्घाट] आवा सुला, 'अद्धोग्घाडायणया' (पचम ३८, १०७)।

अद्धुहु वि [अर्धचतुर्थ] साढे तीन (सम १०१, विसे ६६३)।

अद्धुत्त वि [अर्धोक्त] थोड़ा कहा हुआ (वव १०)।

अद्धुव वि [अधुव] १ चल, अस्थिर, विनश्वर (स ३३६, पचा १६, पचम २६, ३०)। २ अनियत (आचा)।

अद्धेअद्ध वि [अर्धार्ध] १ द्विवा-भूत, दो टुकड़ेवाला, खरिडत। २ क्वि आवा-आवा जैसे हो,

'अद्धेअद्धफुडिआ, अद्धेअद्धकडउक्खअमिलावेडा। पवअनुमाहअविसडा, अद्धेअद्धसिहरा पडति महिहरा।' (मे ६, ६६)।

अद्धोरु } देवी अद्धोरु (दे ३, ४५, ओव  
अद्धोरु } ६७६)।

अद्धोवमिय वि [अद्धोपम्य, अद्धोपमिक] काल का वह परिमाण जो उपमा से समझाया जा सके, पत्थोपम आदि उपमा-काल (ठा २, ४, ८)।

अध अ [अधस्] नीचे (आचा, पि १६०)। अध (शी) अ [अध] अथ, वाद (कप्पू)।

अध (शी) [अयकिम्] १ हाँ। २ और क्या। ३ जरूर, अवश्य (कप्पू)।

अध अ [अधस्] नीचे (पि ३४८)। अधट्ट वि [अधृट्ट] अ-ठीठ (कुमा)।

अधण, वि [अधन] निर्वन, गरीब, 'रमइ विहवी विसेमे, थिइमेत्त थोयवित्तयो महइ।' मगइ सरोरमधणो, रोई जीए चिय कयत्तो।' (गउड, सए)

अधणि वि [अधनिन्] धन-रहित, निर्वन (आ १४)।

अधण्ण वि [अधन्ण] अकृतार्थ, नित्य (परह १, १)।

अधम देखो अहम (उत्त ६)।

अधमण्ण } वि [अधमण] करजदार, देनदार  
अधमन्न } (धर्मवि १४६, १३५)।

अधम्म पु [अधर्म] १ पाप-कार्य, निषिद्ध कर्म, अनैतिक, 'अधम्मएण चैव विट्ति कप्पेमाणे विहरइ' (खाया १, १८)। २ एक स्वतन्त्र श्रीर लोक-न्यायी अजीब वस्तु, जो जीव वगैरह को न्यति करने में सहायता पहुँचाती है (सम २, नव ५)। ३ वि धर्म-रहित, पापी (विपा १, १)। °केड पु [°केतु] पापिष्ठ (खाया १, १८)। °क्खाड वि [°क्खाति] प्रसिद्ध पापी (विपा १, १)। °क्खाइ वि [°क्खायिन्] पाप का उपदेश देनेवाला (भग ३, ७)। °त्थिकाय पु [°त्थिकाय] अधम्म का दूहरा अर्थ देखो (अणु)। °वुद्धि वि [°वुद्धि] पापी, पापिष्ठ (उप ७२८ टी)।

अधम्मिट्ट वि [अधम्मिष्ठ] १ धर्म को नहीं करनेवाला (भग १२, २)। २ महा-पापी, पापिष्ठ (खाया १, १८)।

अधम्मिट्ट वि [अधम्मिष्ठ] अधर्म-प्रिय, पाप-प्रिय (भग १२, २)।

अधम्मिट्ट वि [अधम्मिष्ठ] पापियो का प्यारा (भग १२, २)।

अधम्मिय देखो अहम्मिय (ठा ४, १)।

अधर देखो अहर (उवा, चुपा १३८)।

अधवा (शी) देखो अहवा (कप्पू)।

अधा स्त्री [अधस्] अयो-दिशा, नीचली दिशा (ठा ६)।

अधि देखो अहि = अधि।

अधिङ् देखो अद्धिङ् (सुपा ३५६) ।  
 अधिकरण देखो अधिगरण (परह १, २) ।  
 अधिग वि [अधिक] विशेष, ज्यादा (वृह १) ।  
 अधिगम देखो अधिगम (धर्म २, विने २२) ।  
 अधिगरण देखो अधिगरण (निचू १) ।  
 अधिगरणिया देखो अधिगरणिया (परए २१) ।  
 अधिगार देखो अधिगार (सूत्रलि ५८) ।  
 अधिष्ण } (अप) वि [अधीन] आयत्त,  
 अधिष्ण } परवय (पि ६१, हे ४, ४२७) ।  
 अधिमासग पु [अधिमासक] ध्विक मान  
 (निचू २०) ।  
 अधिरोविअ वि [अधिरोपित] आरोपित,  
 'मूलाधिरोविअो सो' (धर्मवि १३७) ।  
 अधीगार देखो अधिगार (सूत्रलि-१८०) ।  
 अधीय देखो अधीय (उत्त २०, २२) ।  
 अधीस वि [अधीश] नायक, अधिपति  
 (कुमा २३) ।  
 अधुव देखो अद्धुव (एगाया १, १, पउम  
 ६५, ४६) ।  
 अधो देखो अधो = अधस् (पि ३४०) ।  
 अनदि स्त्री [अनन्दि] अमङ्गल, अकुशल, 'त  
 मोएउ अनदि' (अजि ३७) ।  
 अनन्न देखो अणण (कुमा) ।  
 अनय देखो अणय (सुपा ३७१) ।  
 अनल देखो अणल (हे १, २२८, कुमा) ।  
 अनागय देखो अणागय (मग) ।  
 अनागार देखो अणागार (मग) ।  
 अनाय देखो अणाय (सुपा ४७०, पि ३८०) ।  
 अनालफ (चूपे) वि [अनालम्भ] पाप-रहित  
 (कुमा) ।  
 अनालफ (चूपे) वि [अनालम्भ] अहिंसक,  
 दयालु (कुमा) ।  
 अनिगिण देखो अणगिण (सम १७) ।  
 अनिदाया } देखो अणिदा (परए ३४) ।  
 अनिदाया }  
 अनिमिच्छी स्त्री [अनिमिच्छी] लिपि-विशेष  
 (विसे ४६४ टी) ।  
 अनियमिय वि [अनियमित] १ ध्वयव-  
 स्थित । २ असंयत, इन्द्रियो का निग्रह नहीं

करनेवाला; 'भञ्जो य नरय अनियमियप्पा'  
 (पउम ११४, २६) ।  
 अनियट्टि देखो अणियट्टि (सम २६, कम्म  
 २, सत्त ७१ टी) ।  
 अनियय देखो अणियय (शेष २) ।  
 अनिरुद्ध देखो अणिरुद्ध (अत १४) ।  
 अनिल देखो अणिल (हे १, २२८, कुमा) ।  
 अनिसट्टु देखो अणिसट्टु (ठा ३, ८) ।  
 अनिहारिम } देखो अगोहारिम (मग, ठा  
 अनीहारिम } २, ८) ।  
 अनु (अप) देखो अण्णहा (कुमा) ।  
 अनुकूल देखो अणुकूल (सुपा ४७४) ।  
 अनुग्गह देखो अणुग्गह (अभि ४१) ।  
 अनुच्चिट्ठिय देवा अणुच्चिट्ठिय (स १५) ।  
 अनुज्जुय देखो अणुज्जुय (पि ५७) ।  
 अनुह्व देखो अणुह्व = अनु + भू । वक्र  
 अनुह्वंत (रमा) ।  
 अन्न देखो अण्ण (सुपा ३६०, प्रासू ४३, परह  
 २, १, ठा ३, २, ५, १, आ ६) ।  
 अन्नइय देखो अण्णइय (मवि) ।  
 अन्नओ देखो अण्णओ । हुत्त क्रि वि [°मुख]  
 दूसरी तरफ (सुर ३, १३६) ।  
 अन्नत्तो देखो अण्णत्तो (कुमा) ।  
 अन्नत्थ } देखो अण्णत्थ (भाचा, स १५०,  
 अन्नत्थ } कुमा) ।  
 अन्नदो देखो अण्णत्तो (कुमा) ।  
 अन्नमन्न देखो अण्णमण्ण (एगाया १, १) ।  
 अन्नन्न देखो अण्णण्ण (महा, कुमा) ।  
 अन्नय पु [अन्नय] एक की सत्ता में ही दूसरे  
 की विद्यमानता, जैसे अग्नि की हयाती में ही  
 घूम की सत्ता, नियमित सम्बन्ध (उप ४१३,  
 स ६५१) ।  
 अन्नयर देखो अण्णयर (सुपा ३७०) ।  
 अन्नया देखो अण्णया (महा) ।  
 अन्नव देखो अण्णव (सुपा ८५, ५२६) ।  
 अन्नह देखो अण्णह (सुर १, १५६, कुमा) ।  
 अन्नहा देखो अण्णहा (पउम १००, २८,  
 महा, सुर १, १४३, प्रासू ७) ।  
 अन्नहि देखो अण्णहि (कुमा) ।  
 अन्ना स्त्री [दे] माता, जननी (दस ७, १६,  
 १६) ।  
 अन्नाइट्टु वि [अन्वाविट्टु] आक्रान्त, 'तुम सं  
 भाउसो कासवा ! मम त्वेषं भन्नाइट्टे समाए

अतो छएह मासाण पित्तजरपरिगमरोरे दाह-  
 वकतीए द्दउमत्ये चव काल करेस्सति' (मग  
 १५) ।  
 अन्नाण देखो अण्णाण = अज्ञान (कुमा; सुर  
 १, १५, महा, उवर ६५, कम्म ४, ६,  
 ११) ।  
 अन्नाणि देखो अण्णाणि (उव, मुपा ५८८) ।  
 अन्नाणिय देखो अण्णाणिय (पउम ४,  
 २७) ।  
 अन्नाय देखो पहला और दूसरा अण्णाय  
 (सुर ६, २, मुपा २५६, सुर २, ६, २०२,  
 नम्म ६६, मुपा २३३, सुर २, १६५, सुपा,  
 ३०८), 'नाएण ज न सिद्ध को खणु सहलो  
 तयत्यमन्नाओ ?' (उप ७१८ टी) ।  
 अन्नारिस देखो अण्णारिस (हे १, १४२,  
 महा) ।  
 अन्नाहुत्त वि [दे] पराङ्मुख (सुख २, १७) ।  
 अन्नि वि [अन्यदीय] परकीय, 'अन्न वा  
 अन्नि वा' (सूत्र २, २, ६) ।  
 अन्निज्जमाण देखो अण्णिज्जमाण (एगाया १,  
 १६) ।  
 अन्निय देखो अण्णिय ।  
 अन्नियसुय पु [अन्निकासुत] एक विख्यात  
 जैन मुनि (उव) ।  
 अन्निया देखो अण्णिया (सया ५६) ।  
 अन्नुत्ति स्त्री [अन्योक्ति] साहित्य-प्रसिद्ध  
 एक अलङ्कार (मोह ३७, सम्मत १४५) ।  
 अन्नुन्न } देखो अण्णुण्ण (हे १, १५६,  
 अन्नुमन्न } कय) ।  
 अन्नूण वि [अन्यून] अहीन (धर्मवि १२६) ।  
 अन्नेस देखो अण्णेस । वक्र अन्नेसमाण  
 (उप ६ टी) ।  
 अन्नेसण देखो अण्णेसण (सुर १०, २२८,  
 सण) ।  
 अन्नेसणा देखो अण्णेसणा (ठा ३, ४) ।  
 अन्नेसय वि [अन्वेषक] गवेषक, खोज करने-  
 वाला (स ५३५) ।  
 अन्नेमि } देखो अण्णेसि (पि ५१६,  
 अन्नेसिय } भाचा) ।  
 अन्नोन्न देखो अण्णोण्ण (कुमा, महा) ।  
 अप स्त्री व [अप्] पानी, जल (सुज्ज

१०) । °काय पं [°काय] पानी के जीव (ई १३) ।

अपट्टाण देखो अप्पट्टाण (आचा, ठा ४, ३) ।

अपट्टिअ पु [अप्रतिष्ठित] १ नरक-स्थान विशेष (वेवेन्द्र २६) । देखो अप्पट्टिअ ।

अपट्टिय देखो अप्पट्टिय (ठा ४, १) ।

अपएस वि [अप्रदेश] १ निरंश, श्रवण-रहित (भग २०, ५) । २ पु खराव स्थान (पचा ७) ।

अपग पु [अपाङ्ग] १ नेत्र का प्रान्त भाग । २ तिलक । ३ वि हीन श्रंग धाला (नाट) ।

अपडिअ वि [दे] अ-नट, विद्यमान (पड्) ।

अपडिअ [अपण्डित] १ सद्बुद्धि-रहित (वृह १) । २ मूर्ख (अचु ५) ।

अपकरिस पु [अकर्ष] हाम (धर्मस ८३७) ।

अपगड वि [अपगण्ड] १ निर्दोष । २ न. फेन, पानी का भाग (सूत्र १, ३) ।

अपचय पुं [अपचय] अपकर्ष, हीनता (उत्त १) ।

अपच्च देखो अवच्च, 'अपच्चरिणिविसेसारिण सत्ताणि' (पि ३६७) ।

अपच्चय पु [अप्रत्यय] अविश्वास (परह १, २) ।

अपच्चल वि [अप्रत्यय] १ अममर्थ । २ अयोग्य (नचू ११) ।

अपच्छ वि [अपच्य] १ अ-हितकर (पउम ८२, ७२) । २ न नहीं पचनेवाला भोजन, 'वेवेरा अपच्छसेवरोरा रोगुध्व वड्ढेइ' (सुपा ४३८) ।

अपच्छम वि [अपच्छिम] अन्तिम (एदिः पाअ, उव २६४ टी) ।

अपज्जत्त } वि [अपर्याप्त] १ अपर्याप्त, अपज्जत्तग } असमर्थ (गउड) । २ पर्याप्ति (आहारादि ग्रहण करने की शक्ति) से रहित (ठा २, १, नव ४) । नाम न [°नामन्] नाम-कर्म का एक मेद (नम ६७) ।

अपज्जवसिय वि [अपर्यवसित] १ नाश-रहित (सम्म ६१) । २ अन्त-रहित (ठा १) ।

अपडिच्छिर वि [दे] जड-बुद्धि, मूर्ख (दे १, ४३) ।

अपडिण्ण } वि [अप्रतिज्ञ] १ प्रतिज्ञा-अपडिण्ण } रहित, निश्चय-रहित (आचा) ।

२ राग-द्वेष आदि बन्धनों से वर्जित (सूत्र १, ३, ३) । ३ फल की इच्छा न रखकर अनुष्ठान करनेवाला, निष्काम, 'गन्वेसु वा चन्दण-माहु सेट्ट, एव मुणीणं अपडिण्णमाहु' (सूत्र १, ६) ।

अपडिपोग्गल वि [अप्रतिपुद्गल] दरिद्र, निर्धन (निचू ५) ।

अपडिवद्ध वि [अप्रतिघट्ट] १ प्रतिबन्ध-रहित, बेरोक, 'अपडिवद्धो धनलो व्व' (परह २, ५) । २ आमक्ति-रहित (पव १०४) ।

अपडिवाइ देखो अप्पडिवाइ (ठा ६, शोध ५३२, एदि) ।

अपडिसलीण वि [अप्रतिसलीण] असयत, इन्द्रिय आदि जिसके कावू में न हो (ठा ४, २) ।

अपडिहट्टु अ [अप्रतिहृत्य] न दे कर (कस, वृह ३) ।

अपडिहय देखो अप्पडिहय (एया १, १६) ।

अपडीकार वि [अप्रतीकार] इनाज-रहित, उपाय-रहित (परह १, १) ।

अपडुप्पण्ण } वि [अप्रत्युत्पन्न] १ अ-वर्त-अपडुप्पन्न } मान, अ-विद्यमान (पि १६३) । २ प्रतिपत्ति में अ-कुशल (वव ६) ।

अपणट्ट वि [अप्रनट्ट] नाश को अप्राप्त (सुर ४, २४०) ।

अपत्त देखो अप्पत्त (वृह १, ठा ५, २, सूत्र १, १४) ।

अपत्तिअत वक्क [अप्रतियत्त] विश्वास नहीं करता हुआ (गा ६७८, पि ४८७) ।

अपत्तिय देखो अप्पत्तिय (भग १६, ३, पचा ७) ।

अपत्थ देखो अपच्छ (उत्त ७, पचा ७) ।

अपभासिय देखो अवभासिय = अपमापित (वव १) ।

अपमत्त देखो अप्पमत्त (आचा) ।

अपमाण न [अप्रमाण] १ भूला, असत्य (आ १२) । २ वि ज्यादा, अधिक (उत्त २४) ।

अपमाय वि [अप्रमाद] १ प्रमाद-रहित ।

२ पु प्रमाद का अभाव, सावधानी (परह २, १) ।

अपय वि [अपद] १ पांव रहित, वृद्ध, द्रव्य, भूमि वगैरह पैर रहित वस्तु (एया १, ८) ।

२ पु मुक्तात्मा, 'अपयस्म पय नत्थि' (आचा) । ३ मूत्र का एक दोष (वृह १, वित्ते) ।

अपय म्मी [अप्रज] सन्तानरहित (वृह १) ।

अपर देखो अवर (निचू २०) । २ वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध श्रवान्तर सामान्य (वित्ते २४६१) ।

अपरच्छ वि [अपराश्र] असमझ, परोक्ष (परह १, ३) ।

अपरद्ध देखो अवरद्ध (वप्प) ।

अपरतिया ली [अपरान्तिका] छन्द-विशेष (अजि ३४) ।

अपराइय वि [अपराजित] १ अ-परिभूत (परह १, ४) । २ पु. सातवें बलदेव के पूर्व-जन्म का नाम (मम १५३) । ३ भरतक्षेत्र का छठवाँ प्रतिवानुदेव (सम १५४) । ४ उत्तम-पक्ति के देवों की एक जाति (सम ५६) ।

५ भगवान् अपराभदेव का एक पुत्र (राज) । ६ एक महाग्रह (ठा २, ३) । ७ न. अनुत्तर देव-लोक का एक विमान—देवावास (सम ५६) । ८ रुक्म पर्वत का एक शिखर (ठा ८) । ९ जम्बूद्वीप की जगती का उत्तर द्वार (ठा ४, २) ।

अपराइया ली [अपराजिता] १ विदेह-वर्ष की एक नगरी (ठा २, ३) । २ साठवें बलदेव की माता (सम १५२) । ३ अगारक ग्रह की एक पटरानी का नाम (ठा ४, १) । ४ एक दिशा-कुमारी देवी (ठा ८) । ५ श्रोतवि-विशेष (ती ७) । ६ अजनाद्रि पर्वत पर स्थित एक पुष्करिणी (ती २) ।

अपराजिय देखो अपराइय (कप्प, सम ५६, १०२, ठा २, ३) ।

अपराजिया देखो अवराइया (ठा २, ३) ।

अपराजिया ली [अपराजिता] १ भगवान् मल्लिनाथ की दोहा-शिविका (विचार १२९) । २ पक्ष की दशवीं रात (सुज १०, १४) ।

अपरिग्गह वि [अपरिग्रह] १ धन-वान्य आदि परिग्रह से रहित (परह २, ३) । २

ममता-रहित, निर्मम, 'अपरिगहा अणारभा  
निक्खु ताण परिव्वण' (सूत्र १, १, ४)।  
अपरिगहा स्त्री [अपरिगहा] केश्या (वव  
२)।  
अपरिगहिआ स्त्री [अपरिगृहीता] १ केश्या,  
कन्या वगैरह् अविवाहिता स्त्री (पडि)। २  
पति-हीना स्त्री, विधवा (धर्म २)। ३ घर-  
दासी। ४ पनहारी। ५ देव-पुत्रिका, देवता  
को मेट की हुई कन्या (आच ५)।  
अपरिच्छण्ण } वि [अपरिच्छन्न] १ नहीं  
अपरिच्छन्न } उका हुआ, अनावृत (वव ३)।  
२ परिवार रहित (वव १)।  
अपरिणय वि [अपरिणत] १ ख्यान्तर को  
अप्राप्त (ठा २, १)। २ जैन साधु की भिक्षा  
का एक दोष। (आचा)।  
अपरित्त वि [अपरोत] अपरिमित, अनन्त  
(परण १८)।  
अपरिसेस वि [अपरिशेष] सब, सकल,  
निशेष (परह १, २, पचम ३, १४०)।  
अपरिहारिय वि [अपरिहारिक] १ दोषों  
का परिहार नहीं करनेवाला। (आचा)।  
२ पु जैनेतर दर्शन का अनुयायी गृहस्थ  
(नित्र २)।  
अपवग्ग पु [अपवर्ग] मोक्ष, मुक्ति (सुर ८,  
१०६, नत्त ११)।  
अपविद्ध वि [अपविद्ध] १ प्रेरित (से ७,  
११)। २ न उरु-वन्दन का एक दोष, गुरु  
को वन्दन करके तुरन्त ही भाग जाना  
(सुभा २३)।  
अपह वि [अग्रभ] निम्तेज (दे १, १६४)।  
अपहत्य देखो अग्रहत्य (भवि)।  
अपहारि वि [अपहारिन्] अपहरण करने-  
वाला (स २१७)।  
अपहिय वि [अपह्वत] छोना हुआ (पचम  
७६, ५)।  
अपहु वि [अग्रमु] १ अग्रमर्थ। २ नाय-  
रहित, अनाय (पचम १०१, ३५)।  
अपाह्य वि [अपात्रित] पात्र-रहित, भाजन-  
वर्जित; 'नो कल्पह निगयीए-अपाहयाए  
होत्तए' (कस)।  
अपाउड वि [अपावृत] नहीं उका हुआ,  
वस्त्र-रहित, नम्र (ठा ५, १)।

अपादान न [अपादान] कारक-विशेष,  
जिसमें पञ्चमी विभक्ति लगती है (विसे  
२११७)।  
अपाण न [अपाण] १ पाण का अभाव।  
(उप ८४५)। २ पानी जैसा ठंडा पेय वस्तु-  
विशेष। (मग १५)। ३ पुन अपान वायु।  
४ जुदा (सुपा ६२०)। ५ वि जल-वर्जित,  
निर्जल (उन्वाच), 'उट्ठेण भतेण अणारण' (ज २)।  
अपायावगम पुं [अपायावगम] जिनदेव  
का एक प्रतिशय (सवोध २)।  
अपार वि [अपार] पार-रहित, अनन्त (सुपा  
४५०)।  
अपारमग्ग पुं [दे] विश्राम, विश्रान्ति (दे १,  
४३)।  
अपाव वि [अपाव] १ पाप-रहित (सूत्र १,  
१, ३)। २ न पुण्य (उव)।  
अपावा स्त्री [अपापा] नगरी-विशेष, जहा  
भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ था, यह  
आजकल 'पावापुरी' नाम से प्रसिद्ध है और  
विहार से आठ माईल पर है (राज)।  
अपिट्ठ वि [दे] पुनरुक्त, फिरसे कहा हुआ  
(पड्)।  
अपिय वि [अप्रिय] अनिष्ट (जीव १)।  
अपिह अ [अपृथक्] अ-मित (कुमा)।  
अपुणवधग } वि [अपुनर्वन्धक] फिर से  
अपुणवधग } उल्टे कर्मवच नहीं करने  
वाला, तीव्र भाव से पाप को नहीं करने  
वाला (पंचा ३, उप २५३, ६५१)।  
अपुणवभव पु [अपुनर्भव] १ फिर से नहीं  
होना। २ वि जिसे फिर जन्म न हो वह,  
मुक्ति-प्रद (परह २, ४)।  
अपुणवभाव वि [अपुनर्भाव] फिर से नहीं  
होनेवाला (पंच १)।  
अपुणभव देखो अपुणवभव (कुमा)।  
अपुणरागम पु [अपुनरागम] १ मुक्त  
आत्मा। २ मुक्ति, मोक्ष (दसव १)।  
अपुणरावत्तग } पु [अपुनरावर्त्तक] १  
अपुणरावत्तग } फिर नहीं धूमने वाला, मुक्त  
आत्मा। २ मोक्ष, मुक्ति (पि ३४३, श्रीप,  
मग ११)।

अपुणरावत्ति पु [अपुनरावर्त्तिन्] मुक्त  
आत्मा (पि ३४३)।  
अपुणरावित्ति पु [अपुनरावृत्ति] मोक्ष,  
मुक्ति (पडि)।  
अपुणरुत्त वि [अपुनरुत्त] फिर से अक्रियित,  
पुनरुक्ति-रूप से रहित, 'अपुणरुत्तेहि महा-  
वित्तेहि सधुणह' (राय)।  
अपुणागम देखो अपुणरागम (पि ३४३)।  
अपुणागमण न [अपुनरागमण] १ फिर से  
नहीं आना। २ फिर से अनुत्पत्ति, 'अपुणा-  
गमणाय व त तिमिर उम्भूलिअ रविणा'  
(गउड)।  
अपुण्य न [अपुण्य] १ पाप। २ वि पुण्य-  
रहित, काम-नसोव, हत-भाग्य (विपा १, ७)।  
अपुण्य वि [अपूणे] अचूरा, अपरिपूर्ण  
(विपा १, ७)।  
अपुण्य वि [दे] आक्रान्त (पड्)।  
अपुत्त } वि [अपुत्र, क] १ पुत्र-रहित  
अपुत्तिय } (सुपा ४१२, ३१४)। २ स्वजन-  
रहित, निर्मम, निमृह (आचा)।  
अपुत्त देखो अपुण्य (साया १, १३)।  
अपुम न [अपुम्] नपुमक (श्रीप २२३)।  
अपुल्ल देखो अपुल्ल (चंड)।  
अपुव्व वि [अपूर्व] १ नूतन, नवीन। २  
अदभुत, आश्चर्यकारक। ३ असाधारण,  
अद्वितीय (हे ४, २७०, उप ६ टी)। ४ करण  
न [करण] १ आत्मा का एक अमृतपूर्व  
शुभ परिणाम (आचा)। २ आठवां गुण-  
स्थानक (पव २२४, कम्म २, ६)।  
अपूय } पु [अपूप] एक भक्ष्य पदार्थ, पूसा,  
अपूय } पूड़ी (श्रीप, परण ३६, दे १, १३४,  
६, ८१)।  
अपेक्ख सक [अप + इक्ष्] अपेक्षा करना,  
राह देलना। हेक्क अपेक्खहुं (शी)  
(नाट)।  
अपेच्छ वि [अपेक्ष्य] १ देखने के अशक्य।  
२ देखने के अयोग्य (उव)।  
अपेय वि [अपेय] पीने के अयोग्य, मद्य  
आदि (कुमा)।  
अपेय वि [अपेत] गया हुआ, नष्ट, 'अपेय-  
चक्खु' (वृह १)।  
अपेह्य वि [अपेक्षक] अपेक्षा करने वाला  
(भाव ४)।

अपोरिसिय } वि [अपौरुषिक] पुरुष मे  
अपोरिसीय } ज्यादा परिमाण वाला, भ्रगाय  
(शाया १, ५, १४) ।

अपोरिसीय वि [अपौरुषेय] पुरुष से नहीं  
वनाया हुआ, नित्य (ठा १०) ।

अपोह सक [अप + ऊह्] निश्चय करना,  
निश्चय रूप मे जानना । अपोहए (विसे  
५६१) ।

अपोह पु [अपोह] १ निश्चय-ज्ञान (विसे  
३६६) । २ वृथभाव, निश्चयता (श्रौष ३) ।

अप्य देखो अत्त = प्राप्त, 'अप्यालमनिमित्त  
पढमन्त्स रायज्मयणम्स अयमद्वे परणत्तेत्ति  
वेमि' (शाया १, १) ।

अप्य वि [अल्प] १ थोडा न्नोक (मुपा  
२८०, स्वन् ६७) । २ अभाव (जीव ३,  
भन १४, १) ।

अप्य पु [आत्मन्] १ आत्मा, जीव, चेतन  
(शाया १, १) । २ निज, स्व, 'अप्यणा  
अप्यणो कम्मक्खय करित्ते' (शाया १, ५) ।

३ देह, शरीर (उत्त ३) । ४ स्वभाव,  
स्वरूप (आत्मा) । ५ वाड वि [°वातिन्] ।

आत्म-हत्या करनेवाला (उप ३५७ टी) ।  
°लट वि [°चञ्चन्दि] न्वेरो, न्वचञ्चन्दी (उप  
८३३ टी) । °ज्ज वि [°ज्ज] १ आत्मन्  
(हे २, ८३) । २ स्वाधीन (निचू १) ।

°ज्जोइ पु [°ज्जोत्तिस्] ज्ञानस्वरूप,  
'किज्जोइरय पुरिसो अप्यज्जोइ त्ति रिहिद्धो'  
(विसे) । °ण्णु वि [°ज्ज] आत्म-ज्ञानी  
(पह) । °वस वि [वश] न्वतन्त्र, स्वा-  
धीन (पाष्म; पढम ३७, २२) । °वह पुं  
[°वध] आत्म-हत्या, अपघात (सुर २,  
१६६; ५, २३७) । °वाइ वि [°वादिन्]

आत्मा के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ को नहीं  
माननेवाला (एदि) ।

अप्य पृ [दे] पिता, बाप (दि १, ६) ।  
अप्य सक [अर्पय्] अर्पण करना, भेंट  
करना । अप्येह (हे १, ६३) । अप्यमइ  
(नाट) । संक अप्पिअ (मुपा २८०) ।

कः अप्पेयव्व (मुपा २६५, ५१६) ।  
अप्यआस देखो अप्यगास (नाट) ।

अप्यआस सक [अपिष्] आलिङ्गन करना ।  
अप्यमासइ (पह) ।

अप्यइहाण पुन [अप्रतिग्रान] १ नोद,  
मुक्ति (आत्मा) । २ मानवीं नरक-भूमि का  
बोचला आवास (सम २, ठा ५, ३) ।

अप्यइट्ठिअ वि [अप्रतिट्ठित्त] १ अप्रति-  
बद्ध । २ अगरीरी, शरीर-रहित (आचा  
२, १६, १२) । देखो अप्यइट्ठिअ ।

अप्यउल्लिय वि [अपम्यौपायि] नहीं पकी  
हुई फल फलहरी (स ५०) ।

अप्यओज्ज वि [अप्रयोजक] अनामक,  
अनिश्चयक (हेतु) (धर्मस १२२३) ।

अप्यभरि वि [आत्मम्भरि] श्रवत्तपेह,  
नवार्यो (उप ५७०) ।

अप्यकंप वि [अप्रकम्प] निश्चल, स्थिर  
(ठा १०) ।

अप्यकेर वि [आत्मीय] स्वकीय, निजो  
(प्रामा) ।

अप्यक वि [अपक] नहीं पका हुआ, कच्चा  
(मुपा ४१३) ।

अप्यग देखो अप्य (आत्र ४; आचा) ।  
अप्यगास पु [अप्रकाश] प्रकाश का अभाव,  
अन्धकार (निचू १) ।

अप्यगुत्ता वी [दे] कपिकन्धू, कौंच वृक्ष  
(दि १, २६) ।

अप्यजाणुअ वि [आत्मज] आमा का  
जानकार (प्राक १८) ।

अप्यजाणुअ वि [अल्पज] अन्न, मूख (प्राक  
'१८) ।

अप्यज्म वि [दे] आत्म-वश, स्वाधीन (दि  
१, १४) ।

अप्यडिआर वि [अप्रतिकार] इलाज-रहित,  
उपाय-रहित (मा ४३) ।

अप्यडिकटय वि [अप्रतिक्रण्टक] प्रतिपक्ष-  
शून्य प्रतिस्पर्धि-रहित (राय) ।

अप्यडिइम्म वि [अप्रतिकर्मन्] संस्कार-  
रहित, परिष्कार-वर्जित; 'सुराणागारे व अप्य-  
डिकम्म' (पएह २, ५) ।

अप्यडिक्कत वि [अप्रतिक्रान्त] दोष से  
अनिवृत्त, व्रत-नियम में लगे हुए दूषणों की  
जितने शुद्धि न की हो वह (श्रौष) ।

अप्यडिकुट्ट वि [अप्रतिकुट्ट] अनिवारित,  
नहीं रोका हुआ (ठा २, ४) ।

अप्यडिचक वि [अप्रतिचक्र] अनुप्य,  
असमान (एदि) ।

अप्यडिण्ण } देवो अप्यडिण्ण (आचा) ।  
अप्यडिन्न }

अप्यडिधव पु [अप्रतिधव] १ प्रतिवन्ध  
का अभाव । २ वि प्रतिवन्ध-रहित (मुपा  
६०८) ।

अप्यडिधव देवो अप्यडिधव (उत्त २६; वि  
२१८) ।

अप्यडिधुव वि [अप्रतिधुव] १ अ-जागृत ।  
२ बोधन, नुत्तुमार (अभि १६१) ।

अप्यडिम वि [अप्रतिम] असाधारण, अनु-  
पम (उप ७६८ टी; मुपा ३५) ।

अप्यडिह्व वि [अप्रतिह्व] ऊपर देवो (उप  
७२८ टी) ।

अप्यडिल्ल वि [अप्रतिल्लवध] असाध  
(शाया १, १) ।

अप्यडिल्लेस्स वि [अप्रतिल्लेश्य] असाधारण  
मनो-वृत्तवाला (श्रौष) ।

अप्यडिल्लेण न [अप्रतिल्लेण] अययंवे-  
क्षण, अययनोक्त, नहीं देवना (आव ६) ।

अप्यडिल्लेणणा वी [अप्रतिल्लेखणा] ऊपर  
देवो (कप्प) ।

अप्यडिल्लेहिय वि [अप्रतिल्लेहिय] अययंवे-  
क्षित, अययनोक्त, नहीं देवना हुआ (उवा) ।

अप्यडिल्लोम वि [अप्रतिल्लोम] अनुकूल (भग  
२५, ७; अभि २४) ।

अप्यडिल्लेरिय पु [अप्रतिवृत्त] प्रदोष काल  
(वृह १) ।

अप्यडिवाइ वि [अप्रतिपातिन्] १ जिसका  
नाश न हो ऐसा, नित्य (नुर १४, २६) । २  
अवधिज्ञान का एक भेद, जो केवल ज्ञान के  
बिना उत्पन्न किये नहीं जाता (विसे) ।

अप्यडिह्वय वि [अप्रतिह्वस्त] असमान,  
अद्वितीय (सि १३, १२) ।

अप्यडिह्वय वि [अप्रतिह्व] १ किसी से नहीं  
रुका हुआ (पएह २, ५) । २ अक्षरिण्डत,  
अवाचित, 'अप्यडिह्वयनासणे' (शाया १, १६) ।  
३ विचवाद-रहित 'अप्यडिह्वयवरणाएदंसएवरे'  
(भा १, १) ।

अप्यडीवद्ध देखो अप्यडिवद्ध, 'निम्ममनिच्छ-  
कारा निअयसरोरेवि अप्यडीवद्धा' (सपा ६०) ।

अप्यङ्गिहय वि [अल्पङ्गिक] षोडी ऋद्धि-  
वाना, अल्प वैभवाना (सुपा ४३०) ।

अप्यण न [अर्पण] १ भेंट, उपहार, दान  
(श्रा २७) । २ प्रधान रूप से प्रतिपादन (विसे  
१८४३) ।

अप्यण देखो अप्य = आत्मन् (श्राचा, उक्त  
१, महा, हे ४, ४२२) ।

अप्यण वि [आत्मीय] स्वकीय, निजका, 'नो  
अप्यणा पराया गुणो कस्यापि ह्येति सुदाहा'  
(सद्वि १०५) ।

अप्यणय वि [आत्मीय] स्वकीय, निजो  
(पञ्चम ५०, १६, सुपा २७६, हे २, १५३) ।

अप्यणा अ [स्वयम्] स्वय, आप, निज,  
बुद (पह) ।

अप्यणिञ्ज } वि [आत्मीय] स्वकीय,  
अप्यणिञ्जिय } स्वीय (ठा १, भावम) ।

अप्यणो अ [स्वयम्] आप, बुद, निज;  
'विभ्रजति अप्यणो चैव कमलसरा' (हे २,  
२०६) ।

अप्यण्ण देखो अकम = भा + क्रम् । अप्यण्णञ्ज  
(प्राकृ ७३) ।

अप्यण्णुअ देखो अप्यजाणुअ = आत्मन्,  
अल्पन् (प्राकृ १८) ।

अप्यतक्षिय वि [अप्रतर्कित] अविचिन्तित,  
असभावित (स ५३०) ।

अप्यत्त पुन [अपात्र] १ अयोग्य, नालायक,  
कुपात्र; 'अण्येवि ह्य अप्यत्ता पररिद्धि नेय  
विसर्हति' (सुर ३, ४५, गा १५७) । २ वि  
आधार-रहित, माजन-शून्य (सुर १३, ४४) ।

अप्यत्त वि [अपत्र] १ पत्ता से रहित (वृक्ष)  
(सुर ३, ४५) । २ पाँख से रहित (पत्नी)  
(सुम १, १४) ।

अप्यत्त वि [अप्राप्त] अलब्ध, अनवाप्त (सुर  
१३, ४५, श्लो ८६) । १ कारि वि [कारिन्]  
बन्तु का बिना स्पर्श किये ही (दूर से) ज्ञान  
उपन्न करनेवाला, 'अप्यत्तकारि एण्ये'  
(विसे) ।

अप्यत्ति स्त्री [अप्राप्ति] नहीं पाना (सुर ४,  
२१३) ।

अप्यत्तिय पुन [अप्रत्यय] अविद्यास (स  
६६७, सुपा ५१२) ।

अप्यत्तिय न [अप्रीति] १ अप्रीति, प्रेम का  
अभाव (ठा ४, ३) । २ क्रोध, गुस्सा (सुम  
१, १, २) । ३ मालसिक पीडा (श्राचा) ।  
४ अपकार (निचू १) ।

अप्यत्तिय वि [अपात्रिक] पात्र-रहित,  
आवार-वर्जित (भग १६, ३) ।

अप्यत्तियण न [अप्रत्ययन] अविद्यास,  
अश्रद्धा (सप ३१२) ।

अप्यत्थ वि [अप्रार्थ्य] १ प्रार्थना करने के  
अयोग्य । २ नहीं चाहने लायक (सुपा ३३६) ।

अप्यत्थयण न [अप्रार्थन] १ अयाच्चा । २  
अनिच्छा, अचाह (उक्त ३२) ।

अप्यत्थिय वि [अप्रार्थित] १ अयाचित ।  
२ अनभिनिपित, अवाञ्छित (जं ३) । १ पत्थय,  
१ पत्थिय वि [१ प्रार्थक, १ थिक] मरणाथी,  
मौत को चाहनेवाला; 'वीस ए एस अप्यत्थिय-  
पत्थए दुरतपतलक्खणे' (भग ३, २, एया  
१, ६, पि ७१) ।

अप्यत्थ्युय वि [अप्रस्तुत] प्रसंग के अनुपपुक्त,  
विपमान्तर (सुपा १०६) ।

अप्यदुद्धु वि [अप्रद्विष्ट] जिसपर द्वेष न हो  
वह, प्रीतिकर (श्लो ७४४) ।

अप्यदुस्समाण वक्क [अप्रद्विष्यत्] द्वेष नहीं  
करता हुआ (अंत १२) ।

अप्यप्प वि [अप्राप्य] प्राप्त करने के अशक्य  
(विसे २६८७) ।

अप्यभाय न [अप्रभात] १ वही सवेर । २  
वि प्रकाश-रहित, कान्ति-वर्जित; 'अन्न पुण  
अप्यभाए गयणे' (सुर ११, ११०) ।

अप्यभु वि [अप्रभु] १ असमर्थ (भग) । २  
तुं मालिक से भिन्न, नौकर वगैरह (धर्म ३) ।  
अप्यमज्जिय वि [अप्रमार्जित] साफ नहीं  
किया हुआ (उवा) ।

अप्यमत्त वि [अप्रमत्त] प्रमाद-रहित, साव-  
धान, उपयोगवाला (परह २, ५, हे १, २३१,  
अभि ६८५) । १ सजय पुंस्त्री [१ सयत्] १  
प्रमाद-रहित मुनि । २ न सातवा गुण-स्थानक  
(भग ३, ३) ।

अप्यमाण देखो अपमाण (बृह ३, परह २, ३),  
'अइकमिता जिणारायमाण, तवति तिब्ब  
तवमपमाणे' ।

पदति नाणं तह दिति दाणं, सव्वपि  
तेसि कयमपमाणे' (उक्त २०) ।

अप्यमाय पु [अप्रमाद] प्रमाद का अभाव  
(निचू १) ।

अप्यमेय वि [अप्रमेय] १ जिमका माप न  
हो सके, अनन्त (पञ्चम ७५, २३) । २ जिसका  
ज्ञान न हो सके (धर्म १) । ३ प्रमाण से  
जिसका निश्चय न किया जा सके वह (परह  
१, ४) ।

अप्यय देखो अप्य (उव: पि ४०१) ।  
अप्यरिचत्त वि [अपरित्यक्त] नहीं छोडा  
हुआ, अपरिमुक्त (सुपा ११०) ।

अप्यरिवडिय वि [अपरिपतित] अनष्ट,  
विद्यमान (श्रा ६) ।

अप्यलहुअ वि [अप्रलघुक] महान्, बडा (से  
१, १) ।

अप्यलीण वि [अप्रलीन] असंबद्ध, सङ्ग-  
वर्जित (सुम १, १, ४) ।

अप्यलीयमाण वक्क [अप्रलीयमाण] आसक्ति  
नहीं करता हुआ (श्राचा) ।

अप्यवित्त वि [अप्रवृत्त] प्रवृत्ति-रहित (पंचा  
१४) ।

अप्यवित्ति स्त्री [अप्रवृत्ति] प्रवृत्ति का अभाव  
(धर्म १) ।

अप्यसत्त वि [अप्रशान्त] अशान्त, कुपित  
(पंचा २) ।

अप्यससणिञ्ज वि [अप्रशसनीय] प्रशसा  
के अयोग्य (तदु) ।

अप्यसज्ज वि [अप्रसज्ज] १ सहने के अश-  
क्य । २ सहन करने के अयोग्य (वव ७) ।

अप्यसण्ण वि [अप्रसन्न] उदासीन (नाट) ।  
अप्यसत्थ वि [अप्रशस्त] अचार, असुन्दर,  
खराब (ठा ३, ३, भग आ ४) ।

अप्यसत्तिय वि [अल्पसत्त्विक] अल्प सत्त्व  
वाला, 'सुसमत्थाविसमत्था कीरति अप्यसत्तिया  
पुरिसा' (सुम १, ४, १) ।

अप्यसारिय वि [अप्रसारिक] निर्जन, विजन-  
(स्थान) (उव १७०) ।

अप्यहवंत वक्क [अप्रभवत्] समर्थ नहीं  
होता हुआ, नहीं पहुँच सकता हुआ (स  
३०५) ।

अप्यहिय वि [अप्रथित] १ अविस्तृत । २  
अप्रसिद्ध (सुपा १२५) ।

अप्पाअपि स्त्री [दे] उक्कएण, श्रौत्सुत्तय (पिण) ।

अप्पाट्ट वि [अप्रावृत्] अनाच्छादित, नग्न (नूय २, २) ।

अप्पाउय वि [अल्पायुक्क] थोडा आयु-वाला (ठा ३ ३, पत्तम १४, ३०) ।

अप्पाउरण वि [अप्रावरण] १ नग्न । २ न वस्त्र का अनाव । ३ वस्त्र नहीं पहनने का नियम (पचा ५, पव ४) ।

अप्पाण देखो अप्प = आत्मन् (परह १, २, ठा २, २, प्राप्र. हे ३, ५६) । रक्खि वि [रक्खिन्] आत्मा की रक्षा करनेवाला (त्त ४) ।

अप्पावहु } न [अल्पवहुत्व] न्यूनविक्रता,  
अप्पावहुय } कम-वेशोपन (नव ३२, ठा ४, २) ।

अप्पाचय वि [अप्रावृत्] १ वस्त्र-रहित, नग्न (परह २, १) । २ बुना हुआ, बन्द नहीं किया हुआ (सूम १, ५, १) ।

अप्पाचिय वि [अर्पित] दिया हुआ (मुपा ३३१) ।

अप्पाह सक [स + दिग्] संदेश देना, खबर पहुंचाना । अप्पाहइ (पड; हे ४, १८०) । अप्पाहेइ (गा ६३२) । संकृ अप्पाहट्टु, अप्पाहिवि (पि ५७७, नवि) ।

अप्पाह सक [आ + भाप्] सभापण करना । अप्पाहइ (प्राकृ ७०) ।

अप्पाह नक [अधि + आपय] पढाना, सीखाना । कर्म अप्पाहिवइ (से १०, ७४) । वक्क अप्पाहैत्त (से १०, ७५) । हेइ अप्पाहैत्त (पि २८६) ।

अप्पाहणी स्त्री [दे] संदेश, समाचार (पिड ४३०) ।

अप्पाहण न [अप्राधान्य] मुख्यता का अभाव, गौरवता (चंवा १, भास ११) ।

अप्पाहिय वि [सदिष्ट] संदेश दिया हुआ (नवि) ।

अप्पाहिय वि [अध्यापित] १ पाठित, सिद्धित (से ११, ३८, १४, ६१) । २ न, सीख, उपदेश, 'अप्पाहिमत्तरण' (उप ५६२ टी) ।

अपिडि विडय [अल्पद्विक] अल्प संपत्ति वाला (भग, पत्तम २, ७४) ।

अपिण सक [अर्पय] अर्पण करना, भेंट करना, देना, 'अहीरोवि वारोण अपिणइ' (आक) । अपिणामि (पि ५५७) । अपिणति (विसे ७ टी) ।

अपिणग न [अर्पण] दान, भेंट (उप १७४) ।

अपिणिच्चिय वि [आत्मीय] स्वकीय, निजी (भग) ।

अपिय वि [अर्पित] १ दिया हुआ, भेंट किया हुआ (विपा १, २, हे १, ६३) । २ विवसित, प्रतिपादन करने को इष्ट, 'जह दवियमपिय त तहेव अत्थित पच्चवनयन्त्' (सम्म ४२) । ३ पु पर्यायाधिक नय, 'अपियमय विनेत्तो सामत्तमणपियनयन्त्' (विसे) ।

अपिय वि [अप्रिय] १ अनिष्ट, अप्रीतिकर (भग १, ५, विपा १, १) । २ न मन का दुःख । ३ चित्त को शका, 'अट्टु एाईण व सुहीरां वा अपिय दट्टु एगता हांति' (सूम १, ४, १, १४) ।

अपीइ स्त्री [अप्रीति] अप्रेम, अलचि (मुपा २६४) ।

अपीकय वि [आत्मीकृत] आत्मा से संबद्ध (विसे) ।

अपुट्ट वि [अस्पृष्ट] नहीं छूना हुआ, अस-युक्त, 'ज अपुट्टा भावा श्रोहिनाणस्स हृति पच्चत्ता' (सम्म ८१) ।

अपुट्ट वि [अष्टुट्ट] नहीं पूछा हुआ (मुपा १११) ।

अपुण्ण वि [दे आपूर्ण] पूर्ण (पड) ।

अपुण्ण वि [आत्मीय] आत्मा ने उत्पन्न (हे २, १६३, पड, कुमा) ।

अपुण्ण देखो अपुण्ण; 'अपुण्णो पडिंबो जोवियमवि चयड मह कज्जे' (मुपा ३११) ।

अप्येयव्व देखो अप्प = अर्पय ।

अप्पोळि स्त्री [अप्रञ्जलिता] कच्ची फल-फुलहरी (आ २१) ।

अप्पोळ वि [दे] फोल-रहित, नकर (वृह ३) ।

अप्फडिअ वि [आम्फालिन] आम्फालित, ग्राह्य (विसे २६८२ टी) ।

अप्फाल नक [आ + स्फालय] १ आस्फो-लन करना, हाथ से आघात करना । २ ताडना, पीटना । ३ ताल ठोकना । अप्फालेइ (महा) । क्वक्क अप्फालिज्जत (राय) । सकृ अप्फालिज्जण (काप्र १८६, महा) ।

अप्फालण न [आस्फालन] १ ताल ठोकना । २ ताडन, आघात (गा ५४८, से ५, २२, सुपा ८७) ।

अप्फालिय वि [आस्फालित] १ हाथ से ताडित, ग्राह्य (पि ३११) । २ वृद्धि प्राप्त, उन्नत (राज) ।

अप्फुद् सक [आ + क्रम्] १ आक्रमण करना । २ जाना, 'सुमाराम्पो व्व एाह अप्फुद्द मलिअरविअर कुमुमराम्पो' (से ६, ५७) ।

अप्फुडिय देखो अफुडिय (ज २, दस ६) ।

अप्फुण्ण वि [दे आक्रान्त] आक्रान्त, दवाया हुआ (हे ४, २५८) ।

अप्फुण्ण वि [अपूर्ण] अपूरण, अधूरा (गड्ड) ।

अप्फुण्ण १ वि [दे आपूर्ण] पूर्ण, नरा अप्फुण्ण १ हुआ (दे १, २०, मुर १०, १७०, पाप्र), 'महया पुत्तसोएण अप्फुण्णा समाणी' (निर १, १) ।

अप्फुण्ण देखो अप्फुण्ण (गड्ड) ।

अप्फोआ स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष (परण १) ।

अप्फोड सक [आ + स्फोटय] १ आस्फालन करना, हाथ से ताल ठोकना । २ ताडन करना । वक्क अप्फोडत्त (राया १, ८, मुर १३, १८२) ।

अप्फोडण न [आस्फोटन] आस्फालन (गड्ड) ।

अप्फोडिय } वि [आस्फोटित] १ आस्फा-  
अप्फोलिय } लित, ग्राह्य । २ न आस्फालन, आघात (परह १, ३, कम्प) ।

अप्फोया स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष (राय ८० टी) ।

अप्फोव वि [दे] वृक्षादि से व्याप्त, गहन, निविड (उत्त १८) ।

अफल वि [अफल] निष्फल, निरर्थक (द्र १) ।

अफाय पुं [दे] भूमि-स्फोट, वनस्पति-विशेष (परण १) ।  
 अफास वि [अस्पर्श] १ स्पर्श-रहित (भग) ।  
 २ खराव स्पर्श वाला (सूत्र १, ५, १) ।  
 अफासुय वि [अप्रासुक] १ सचित्त, मजीव (भग ५, ६) । २ अग्राह्य (निज्ञा) (ठा ३, १) ।  
 अफुड वि [अस्फुट] अस्पष्ट, अस्पष्ट (सुर ३, १०६, २१३, गा २६६, उप ७२८ टी) ।  
 अफुडिअ वि [अस्फुटित] अलगाव, नहीं हटा हुआ (कुमा) ।  
 अफुस वि [अस्पृश्य] स्पर्श करने के अयोग्य (भग) ।  
 अफुसिय वि [अभ्रान्त] भ्रम-रहित (कुमा) ।  
 अफुस्स देखो अफुस (ठा ३, २) ।  
 अवभ न [अव्रह्म] मैथुन, स्त्री-सङ्ग (परह १, ५) । १ चारि वि [चारिन्] ब्रह्मचर्य नहीं पालनेवाला (पि ४०५, ५१५) ।  
 अव्रद्धिय पुं [अव्रद्धिक] 'कर्मों का आत्मा से स्पर्श ही होता है, न कि क्षीर-नीर की तरह एक्य' ऐसा माननेवाला एक निह्व—जैनाभास । २ न. उसका मत (ठा ७, विने) ।  
 अवल वि [अवल] बल रहित, निर्बल (पद्म ४८, ११७) ।  
 अयला स्त्री [अचला] स्त्री, महिला, जनाना (पात्र) ।  
 अवस पु [अवश] बढवानल (मे १, १) ।  
 अवहित्त न [दे] अवहित्त्य मैथुन, स्त्री-सङ्ग (सूत्र १, ६) ।  
 अवहिम्मण वि [अवहिर्मनस्क] धर्मिष्ठ, धर्म-तत्पर (भाचा) ।  
 अवहिह्सेस वि [अवहित्तेदय] जिसकी अवहित्तेसस चित्त-वृत्ति बाहर न घूमती हो, सयत (भग, परह २, ५) ।  
 अवाधा देखो अवाहा (जीव ३) ।  
 अवाह पुं [अवाह] देश-विशेष (इक) ।  
 अवाहा स्त्री [अवाधा] १ वाघ का अभाव (श्लेष ५२ मा, भग १४, ८) । २ व्यवधान, अन्तर (सम १६) । ३ वाघ-रहित समय (भग) ।  
 अवाहिर अ [अवहिस्] बाहर नहीं, भीतर (कुमा) ।

अवाहिरय वि [अवाह्य] भीतरी, आभ्यन्तर (वव १) ।  
 अवाहिरिय वि [अवाहिरिक] जिसके किले के बाहर वसति न हो ऐसा गांव या शहर (वृह १) ।  
 अवीय देखो अवीय (कप्प) ।  
 अवुज्जम अ [अवुद्ध्या] नहीं जान कर, 'किमिचि तत्काइ अजुज्जम भाव' (सूत्र १, १३, २०) ।  
 अवुद्ध वि [अवुध] १ अज्ञान, मूर्ख। (दत्त २) । २ अविवेकी (सूत्र १, ११) ।  
 अवुद्धिय वि [अवुद्धिक] बुद्धि-रहित, मूर्ख अवुद्धीय (राणा १, १७, सूत्र १, २, १, पद्म ८, ७४) ।  
 अवुह वि [अवुध] १ अज्ञान। (सूत्र १, २, १, जी १) । २ मूर्ख, वेवकूफ (परह १, ६) ।  
 अवोह वि [अवोध] १ बोध-रहित, अज्ञान । २ पुं ज्ञान का अभाव (धर्म १) ।  
 अवोहि पुं स्त्री [अवोधि] १ ज्ञान का अभाव (सूत्र २, ६) । २ जैन धर्म की अज्ञानि । ३ बुद्धि-विशेष का अभाव (भग १, ६) । ४ मिथ्या-ज्ञान, 'अवोहि परियाणामि वोहि उवसप-जामि' (भाव ४) । ५ वि बोधि-रहित (भग) ।  
 अवोहिय न [अवोधिक] ऊपर देखो (दस ६, सूत्र १, १, २) ।  
 अव् स्त्री व [अप्] पानी, जल (श्रा २३) ।  
 अव्वभ देखो अव्वभ (सुपा ३१०) ।  
 अव्वभण्ण न [अव्रह्मण्य] ब्रह्मण्य का अव्वभण्ण अभाव (नाट, प्रयो ७६) ।  
 अव्वीय देखो अवीय (चेइय ७३८) ।  
 अव्वुद्धिसिरी स्त्री [दे] इच्छा से भी अविच फल की प्राप्ति (दे १, ४२) ।  
 अव्वुय पुं [अवुद्ध] पर्वत-विशेष, जो राज-कल 'मार्त' नाम से प्रसिद्ध है (राज) ।  
 अव्वुय न [अवुद्ध] जमा हुआ शुक और शोणित (वदु ७) ।  
 अव्वभ न [अव्व] १ आकाश। (राय, पात्र) । २ मेघ, बादल (ठा ४, ४, पात्र) ।  
 अव्वभ सक [आ + भिद] भेदन करना । अवे (भाचा १, १, २, ३) ।

अव्वभग सक [अभि + अज्ज] तैल आदि से मदन करना, मालिश करना । अव्वभगइ, अव्वभगेइ (महा) । सक अव्वभगिउं, अव्वभगेत्ता, अव्वभगित्ता (ठा ३, १, पि २३४) । हेक्क. अव्वभगेत्तए (कस) ।  
 अव्वभंग पु [अव्वभङ्ग] तैल-मदन, मालिश (निव्व ३) ।  
 अव्वभण न [अव्वभञ्ज] ऊपर देखो (राणा १, १, महा) ।  
 अव्वभणिएह्य वि [अव्वभण्ण] तैलादि से अव्वभणिय मर्दित, मालिश किया हुआ (श्लेष ८२, कप्प) ।  
 अव्वभन्तर न [अव्वभन्तर] १ भीतर, मे (गा ६२३) । २ वि भीतर का, भीतरी (राय, महा) । ३ समीप का, नजदीक का (सम्बन्धी) (ठा ८) । ४ ठाणिल्ल वि [स्थानीय] नजदीक के सम्बन्धी, कौटुम्बिक लोग (विपा १, ३) । ५ तव पुं [तपस्] विनय, वैया-वृत्त्य, प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, ध्यान और कायो-त्सर्ग रूप अन्तरंग तप (ठा ६) । ६ परिसा स्त्री [परिपट्ट] मित्र आदि समान जनों की समा (राय) । ७ लद्धि स्त्री [लद्धि] अवि-ज्ञान का एक भेद (विसे) । ८ सवुक्का स्त्री [शम्बुक्का] मित्रा की एक चर्चा, गति-विशेष (ठा ६) । ९ सगहुद्धिया स्त्री [शरु-टोद्धिका] कायोत्सर्ग का एक दोष (पव ५) ।  
 अव्वभन्तर वि [अव्वभन्तर] भीतरी, भीतर का (ज ७, ठा २, १, परण ३६) ।  
 अव्वभसि वि [अव्वभसिन्] १ अष्ट नहीं होने-वाला (नाट) । २ अण्ट (कुमा) ।  
 अव्वभक्खइज्ज देखो अव्वभक्खा  
 अव्वभक्खण न [दे] अकीर्ति, अपयश (दे १, ३१) ।  
 अव्वभक्खा मक [अभ्या + ख्या] भूला दोष लगाना, दोषारोप करना । अव्वभक्खाइ (भग ५, ७) । क. अव्वभक्खइज्ज (भाचा) ।  
 अव्वभक्खाण न [अभ्याख्यान] भूला अभि-योग, असत्य दोषारोप (परह १, २) ।  
 अव्वभट्ट देखो अव्वभत्थिय, 'उ(अ)व्वभट्टपरि-साय' (पिड २८१) ।  
 अव्वभड अ [दे] पीछे जाकर (हे ४, ३६९) ।  
 अव्वभणुजाण सक [अव्वभणु + ज्ञा] अनुमति,



देना, सम्मति देना । अचभणुजाणिस्सदि (गौ)  
(पि ५३४) ।  
अचभणुणा [अभ्यनुत्ता] अनुमति, सम्मति  
(राज) ।  
अचभणुणाय वि [अभ्यनुत्ता] अनुमत,  
समत (ठा ५, १) ।  
अचभणुत्ता देवो अचभणुणा ।  
अचभणुत्ताय देवो अचभणुणाय (एगाया १,  
१, कप्प, नुर ३, ८८) ।  
अचभणुण न [अभ्यर्ण] १ निकट, नजदीक ।  
२ वि समीपन्थ (पउम ६८, ८८) । ३ पुर  
न [पुर] नगर-विशेष (पउम ६८, ५८) ।  
अचभत्त वि [अभ्यक्त] १ तैलादि से मर्दित,  
मालिग किया हुआ । २ मिक्त, सीचा हुआ,  
'दिसि-दिसि चवत्तभूरिकेयारो, पत्तो वाम्मा-  
रत्तो' (सुर २, ७८) ।  
अचभत्य वि [अभ्यस्त] पठित, शिक्षित  
(मुपा ६७) ।  
अचभत्य सक [अभि + अर्थ्य] १ सत्कार  
करना । २ प्रार्थना करना । अचभत्यम्ह (पि  
४७०) । संकृ अचभत्यइअ, अचभत्यिअ  
(नाट) । कृ अचभत्यणीय (अभि ७०) ।  
अचभत्यण न [अभ्यर्थन] १ सत्कार ।  
२ प्रार्थना (कप्प, हे ४, ३८४) ।  
अचभत्यणा } स्त्री [अभ्यर्थेना] १ आदर,  
अचभत्यणिया } सत्कार (सि ४, ४८) । २  
प्रार्थना, विनासि (पचा ११, सुर १, १६) ।  
'न महइ अचभत्यणिय, अमइ  
गयाणपि पिट्टिमसाइ ।  
दट्ठण भानुरमुह, खलसीह  
को न वोहिइ' (वजा १२) ।  
अचभत्यिथ वि [अभ्यर्थित] १ आदर,  
सत्कृत । २ प्रार्थित (सुर १, २१) ।  
अचभन्न देवो अचभणु (पात्र) ।  
अचभपडल न [दे] उपवासु-विशेष, मोडल,  
अन्नक, अवरक (उत्त ३६, ७५) ।  
अचभपिसाअ पु [दे] अन्नपिशाच' राहु (दि  
१, ४२) ।  
अचभय पु [अभयक] बालक, बच्चा (पात्र) ।  
अचभय पु [अभयक] अवरक (जी ४) ।  
अचभरहिय वि [अभ्यर्हित] सत्कार-प्राप्त,  
गौरवशाली (वृह १) ।

अचभवहरिय वि [अभ्यवहृत] भुक्त (मुव  
२, १७) ।  
अचभवहार पु [अभ्यवहार] भोजन, खाना  
(विसे २२१) ।  
अचभवालुया स्त्री [दे] अन्नक का चूणं  
(उत्त ३६, ७५) ।  
अचभव्व देवो अभव्व; 'अचव्वणा मिद्धा  
एतणुणा एतया मव्वा' (पस ८४) ।  
अचभवस सक [अभि + अस्] सीखना,  
अभ्यास करना । वक्क अचभवसंत (स ६०६) ।  
वृ अचभवसियव्व (नुर १४, ८५) ।  
अचभवसण न [अभ्यसन] अभ्यास (दसति  
१) ।  
अचभवसिय वि [अभ्यस्त] सीखा हुआ (नुर  
१, १८०, ६, १६) ।  
अचभवहर पु [दे] अन्नक (पच ३, ३०) ।  
अचभवहिय वि [अभ्यधिक] विशेष, ज्यादा  
(सम २, नुर १, १७०) ।  
अचभाअच्छ वि [अभ्या + गम्] मसुव  
आना, मामने आना । अचभाअच्छइ (पइ) ।  
अचभाइक्ख देवो अचभकरा । अचभाइक्खइ,  
अचभाइक्खेजा (आचा) ।  
अचभागम पु [अभ्यागम] १ मसुवागमन ।  
२ ममीप स्थिति (निचू २) ।  
अचभागमिय } वि [अभ्यागत] १ समु-  
अचभागय } खागत । २ पु आगन्तुक,  
पाहुन, प्रतिधि (सूप १, २, ३, सुपा ५) ।  
अचभायत्त } वि [दे] प्रत्यागत, वापस आया  
अचभायत्थ } हुआ (दे १, ३१) ।  
अचभास पु [अभ्यास] गुणकार (अणु ७४,  
पिड ५५५) ।  
अचभास न [अभ्यास] १ निकट, नजदीक  
(सि ६, ६०, पात्र) । २ वि समीपवर्ती, पार्श्व-  
स्थित (पात्र) । ३ पु शिला, पढाई, सीख ।  
४ आवृत्ति (पात्र, वृह १) । ५ आदर (ठा  
४, ४) । ६ आवृत्ति से उत्पन्न सत्कार (धर्म  
२) । ७ गरिष्ठ का संकेत-विशेष (कम्म ४,  
७८, ८३) ।  
अचभास सक [अभि + अस्] अभ्यास  
करना, आदर डालना,  
'जे अचभासइ जीवो, गुण च दोसं च  
एत्थ जम्ममि ।

त पावइ पर-नोए, तेण य  
अचभान-जोएण' (धर्म २, भवि) ।  
अचभाहय वि [अभ्याहृत] आघात-प्राप्त  
(महा) ।  
अचिभग देवो अचभग = अग्नि + अणु । प्रयो-  
अचिभगावेइ (पि २३४) ।  
अचिभग देवो अचभग = अन्नयग (एगाया १,  
१८) ।  
अचिभगण देवो अचभगण (कप्प) ।  
अचिभगिय देवो अचभगिय (कप्प) ।  
अचिभतर देवो अचभंतर (कप्प, म ७, परइ  
३, ५, एगाया १, १३) ।  
अचिभतरओ भ [अभ्यन्तरतस्] १ नीतर  
से । २ नीतर मे (आवम) ।  
अचिभतरिय वि [आभ्यन्तरिक] भीतर  
का, अन्तरा (नम ६७, कप्प, एगाया १,  
१) ।  
अचिभतरुद्धि पु [अभ्यन्तरोद्धिन्] कायो-  
त्सर्ग का एक दोष, दोनो पैर के अंगुठो को  
मिलाकर और पृश्नियो को बाहर फैलाकर  
किया जाता व्यान-विशेष (चेत्थ ४८७) ।  
अचिभट्ट वि [दे] सगन, सामने आकर मिडा  
हुआ, 'हत्थो हत्थीण सम अचिभट्टो रत्तवरो  
सह रहेण' (पउम ६, १८२, ६८, २७) ।  
अचिभड सक [स + गम्] सगति करना,  
मिलना । अचिभडइ (कुमा, हे ४, १६४) ।  
अचिभडु (मुपा १५२) ।  
अचिभडिअ वि [संगत] सगत, युक्त (पात्र,  
दे १, ७८) ।  
अचिभडिअ वि [दे] सार, मजबूत (दे १,  
७८) ।  
अचिभणु वि [अभिन्न] मेदरहित (धर्म २) ।  
अचमुअअ देवो अचमुदय (सि १५, ६५,  
स ३०) ।  
अन्मुक्ख सक [अभि + उच्] सोचन  
करना । वक्क अन्मुक्खत (वज्जा ८६) ।  
अन्मुक्खण न [अभ्युक्षण] मिचन करना,  
छिड़काव (स ५७६) ।  
अन्मुक्खणीया स्त्री [अभ्युचणीया] सीकर,  
आसार, पवन से गिरता जल (वृह १) ।

अभ्युक्तिवय वि [अभ्युक्षित] मित्त (न ३४०) ।  
 अभ्युगम पुं [अभ्युगम] उदय, उन्नति (सूत्र १, १४) ।  
 अभ्युगय वि [अभ्युगत] १ उन्नत । २ उत्पन्न (शाया १, १) । ३ ऊँचा किया हुआ, उठाया हुआ (श्रीप) । ४ चारों तरफ फैला हुआ (चद १८) ।  
 अभ्युगय वि [अभ्युद्गत] ऊँचा, उन्नत (भग १२, ५) ।  
 अभ्युच्चय पु [अभ्युच्चय] 'समुच्चय (भास ६५) ।  
 अभ्युच्चय वि [अभ्युच्चय] १ उन्नत, उद्यम-युक्त (शाया १, ५) । २ तैयार (शाया १, १, मुपा २२२) । ३ पु एकाकी विहार (वन्म १२ टी) । ४ जिनकल्पिक मृनि (पचव ४) ।  
 अभ्युद्ध उभ [अभ्युद्ध + स्या] १ आदर करने के लिए खड़ा होना । २ प्रयत्न करना । ३ तैयारी करना । अभ्युद्धेह (महा) । वक्तु अभ्युद्धमाण (न ४१६) । संक अभ्युद्धित्ता (भा) । हेक अभ्युद्धित्तए (ठा २, १) । क अभ्युद्धेयव्य (ठा ८) ।  
 अभ्युद्धय न [अभ्युत्थान] आदर के लिए खड़ा होना (से १०, ११) ।  
 अभ्युद्धा देखो अभ्युद्ध ।  
 अभ्युद्धाण देखो अभ्युद्धण (सम ५१, मुपा ३७६) ।  
 अभ्युद्धित्य वि [अभ्युद्धित्य] १ सम्मान करने के लिए जो खड़ा हुआ हो (शाया १, ८) । २ उन्नत, तैयार 'अभ्युद्धिणु मेहेसु' (शाया १, १, पडि) ।  
 अभ्युद्धेत्तु [अभ्युत्थार] अभ्युत्थान करने-वाला (ठा ५, १) ।  
 अभ्युणय वि [अभ्युन्नत] १ उन्नत, ऊँचा (परह १, ४) ।  
 अभ्युणयंत वक्तु [अभ्युन्नयत्] १ ऊँचा करता हुआ । २ उन्नतित करता हुआ, 'तोएवि जलति दीववतिमव्युण्णअंतीए' (गा २६४) ।  
 अभ्युत्त अक [स्ना] स्नान करना । अभ्युत्तह (हे ५, १४) । वक्तु अभ्युत्तंत (कुमा) ।

अभ्युत्त अक [प्र + दीप्] १ प्रकाशित होना । २ उत्तेजित होना । अभ्युत्तह (हे-४, १५२) । अभ्युत्तए (कुमा) । प्रयो अभ्युत्तंति (से ५, ५९) ।  
 अभ्युत्तिअ वि [प्रदीप्] १ प्रकाशित । २ उत्तेजित (से १५, ३८) ।  
 अभ्युत्थय वि [अभ्युत्थय] उत्पन्न, 'पुव्वभक्कवु-त्थयिणेहामो' (महा) ।  
 अभ्युत्थय १ देखो अभ्युद्धा । वक्तु अभ्युत्थयत अभ्युत्थया (से १२, १८) । नक्तु अभ्यु-त्थयत्ता (काल) ।  
 अभ्युद्धय पु [अभ्युद्धय] १ उन्नति, उदय (प्रयो २६), 'अभ्युपमूयव्युद्धय लद्धण नरभवं सुदीहद्ध' (उप ७६८ टी) ।  
 अभ्युद्धर सक [अभ्युद्ध + धृ] उद्धार करना । अभ्युद्धरामि (भवि) ।  
 अभ्युद्धरण न [अभ्युद्धरण] १ उद्धार (स ०४३) । २ वि उद्धार-कारक (हे ४, ३३४) ।  
 अभ्युद्धय देखो अभ्युणय (शाया १, १) ।  
 अभ्युद्धवड वि [अभ्युद्धट] भक्त्युद्ध, विशेष उद्धत (भवि) ।  
 अभ्युद्धय न [अद्धुत्त] १ आश्चर्य, विस्मय (उप ७६८ टी) । २ वि आश्चर्य-कारक (रायः मुपा; ३५) । ३ पु साहित्य शास्त्र प्रसिद्ध रसों में से एक, 'विम्हयकरो अणुव्वो, अणुयणुव्वो य जो रसो होइ । हरिसविसात्पत्तो, लक्खणओ अभ्युद्धो नाम' (अणु) ।  
 अभ्युवगच्छ मक [अभ्युप + गम्] १ स्वीकार करना । २ पाम जाना । प्रयो, सक अभ्युवगच्छाविय (पि १६३) ।  
 अभ्युवगच्छाविअ वि [अभ्युपगमित] स्वीकार कराया हुआ, 'ताहे वेहि कुमारेहि संवो मज पाएत्ता अभ्युवगच्छाविओ विगयमओ चित्तेह' (आक पृ ३०) ।  
 अभ्युवगम पु [अभ्युपगम] १ स्वीकार, अङ्गीकार (सम १४५, स १७०) । २ तर्क-शास्त्र-प्रसिद्ध सिद्धान्त-विशेष (वह १, सूत्र १, १२) ।  
 अभ्युवगमणा स्त्री [अभ्युपगमना] स्वीकार, अङ्गीकार (उप ८०९) ।

अभ्युवगय वि [अभ्युपगत] १ स्वीकृत (सुर ६, ५८) । २ समीप में गया हुआ (आचा) ।  
 अभ्युववण वि [अभ्युपपन्न] अनुग्रह-प्राप्त, अनुगृहीत (नाट, पि १६३, २७६) ।  
 अभ्युववत्ति स्त्री [अभ्युपपत्ति] अनुग्रह, मेहरवानी (अनि १०४) ।  
 अभ्युवे सक [अभ्युप + इ] स्वीकार करना । अभ्युवेनामि (शाया १, १६ टी, पत्र २०५) ।  
 अभ्यो देखो अव्यो (पड्) ।  
 अभ्योक्तिवय वि [अभ्युक्षित] वित्त, सीचा हुआ (सुर ६, १६१) ।  
 अभ्योज वि [अभ्योज्य] भोजन के अयोग्य (पिड १६०) ।  
 अभ्योज (अप) देखो आभोग (भवि) ।  
 अभ्योवगमिय वि [आभ्युपगमिक] स्वेच्छा से स्वीकृत । १ स्त्री [१] स्वेच्छा से स्वीकृत तपश्चर्यादि की वेदना (ठा ४, ३) ।  
 अन्दिह देखो अन्दिभड । अन्दिहड (पड्) ।  
 अन्हुत्त देखो अभ्युत्त अन्हुत्तह (पड्) ।  
 अभग वि [अभग] १ अखण्डित, अत्रुटित (पडि) । २ इस नाम का एक चोर (विपा १, १) ।  
 अभक्त वि [अभक्त] १ भक्ति नहीं करनेवाला (कुमा) । २ न भोजन का अभाव (वव ७) ।  
 ० ट्ट पु [०र्थ] उपवास (आच, पडि; मुपा ३१७) । ० द्विय वि [०र्थिक] उपोषित, जिम्ने उपवास किया हो वह (पचव २) ।  
 अभय न [अभय] १ भय का अभाव, धैर्य (राय) । २ जीवित, मरण का अभाव (सूत्र १, ६) । ३ वि भय-रहित, निर्भीक (आचा) । ४ पुं राजा धेरिक का एक विख्यात पुत्र और मन्त्री, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (अनु १, शाया १, १) । ० कुमार पु [०कुमार] देखो अनन्तरोक्त अर्थ (पडि) ।  
 ० द्य वि [०द्य] भय-विनाशक, जीवित-दाता (पडि) । ० दान न [०दान] जीवित-दान (परह २, ४) । ० देव पु [०देव] कई एक विख्यात जैनाचार्य और ग्रन्थकारों का नाम (सुरिण १०८७४, गु १४, ती ४०, सार्ध ७३) । ० पदान न [०प्रदान] जीवित का दान (सूत्र १, ६) । ० वत्त न [०वत्त] निर्भयता,

अभय (सुपा १८) । 'सेण पुं [°सेन] एक राजा का नाम (पिंड) ।

अभयंकर वि [अभयंकर] अभय देनेवाला, अहिंसक (सूत्र १, ७, २८) ।

अभयकरा स्त्री [अभयकरा] भगवान् अभिनन्दन की शैला-शिविका (विचार १२६) ।

अभया स्त्री [अभया] १ हरीतकी, हरें, हरडई (निबू १५) । २ राजा दधिवाहन की स्त्री का नाम (जी ३५) ।

अभयारिट्ट न [अभयारिट्ट] मय-विशेष (सूत्र १, ८) ।

अभवमिद्विय } पुं [अभवसिद्धिक] अभव्य, अभवसिद्धीय } मुक्ति के लिये अयोग्य जीव (ठा २, २, एदि. ठ १) ।

अभविय } वि [अभव्य] १ असुन्दर, अचार अभव्य } (वित्ते) । २ पुं मुक्ति के लिये अयोग्य जीव (वित्ते, कम्म ३, २३) ।

अभाअ वि [अभाग] अन्याय, अयोग्य स्थान (सि ८, ४२) ।

अभाइ वि [अभागिन्] अभागा, हठ-भाग्य, कमानसीव (चार २६) ।

अभागधेज्ज वि [अभागधेय] ऊपर देखो (पठम २८, ८६) ।

अभाव पुं [अभाव] १ ध्वंस, नाश (वृह १) । २ अविद्यमानता, असत्त्व (पचा ३) । ३ असम्भव (दस १) । ४ अशुभ परिणाम (उत्त १) ।

अभाविय वि [अभावित] अयोग्य, अनुचित (ठा १०, वृह २) ।

अभावुग वि [अभावुक] जिसपर दूसरे के संग की असर न पड सके वह, 'विसहरमणी अभावुगद्वर्ण जीवो च भावुग तम्हा' (सुपा १७५, श्लोक ७७३) ।

अभासग } वि [अभासक] १ बोलने की अभासय } शक्ति जिसको उदपन्न न हुई हो वह । २ नही बोलनेवाला । ३ पुं केवल त्वग्-इन्द्रियवाला, एकेन्द्रिय जीव । ४ मुक्त आत्मा (ठा २, ४; मग. अणु) ।

अभासा स्त्री [अभापा] १ असत्य वचन । २ तन्य-मिश्रित असत्य वचन (मग २५, ३) ।

अभि अ [अभि] निम्न-लिखित अर्थों में से किसी एक को बतलानेवाला अभ्यय—१ संमुख,

सामने, 'अभिगच्छणया' (श्रीप) । २ चारों ओर, समन्तात्, 'अभिदो' (स्वप्न ४२) । ३ वलात्कार, 'अभिघ्रोण' (वर्म २) । ४ उल्लंघन, अतिक्रमण, 'अभिधत' (आचा) । ५ अत्यन्त, ज्यादा, 'अभिदुग्ग' (सूत्र १, ५, २) । ६ लक्ष्य, 'अभिमुह' । ७ प्रतिकूल, 'अभिवाय' (आचा) । ८ विकल्प । ९ सम्भावना (निबू १) । १० निरर्थक भी इस अभ्यय का प्रयोग होता है, 'अभिमत्तिय' (सुर १६, ६२) ।

अभिअण पुं [अभिजन] १ कुल । २ जन्म-भूमि (नाट) ।

अभिआवण्ण वि [अभ्यापन्न] समुख-आगत (सूत्र १, ४, २) ।

अभिइ स्त्री [अभिजित्] नक्षत्र-विशेष (ठा २, ३) ।

अभिइ सक (अभि + इ) सामने जाना, समुख जाना । वक्तु अभिइत्त (उप १४० टी) ।

अभिउज्ज देखो अभिजुज । सक. अभि-उंजिय (ठा ३, ४, दस १०) ।

अभिओअ } पुं [अभियोग] १ आज्ञा, अभिओग } हुकुम (श्रीप; ठा १०) । २ वलात्कार, 'अभिघ्रोणे अ निघ्रोणे' (आ ५) ।

३ वलात्कार से कोई भी कार्य में लगाना (वर्म २) । ४ अभिनव, परामव (भाव ५) । ५ कर्मण-प्रयोग, बशीकरण, बश करने का चूर्ण या मन्त्र-तन्त्रादि, 'दुविहो खलु अभिघ्रोणे, दव्वे भावे य

होइ नायव्वो ।

दव्वम्मि होइ जोगो, विद्धा मंता य भावम्मि' (श्लोक ५६७) ।

६ गर्व, अभिमान (भाव ५) । ७ आग्रह, हठ (नाट) । °पणत्ति स्त्री [°प्रज्ञप्ति] विद्या-विशेष (णया १, १६) । देखो अहिओय ।

अभिओग पुं [अभियोग] लयम, लयग (सिरि ५८) ।

अभिओगी स्त्री [आभियोगी] भावना-विशेष, ध्यान-विशेष, जो अभियोगिक देव-गति (नीकर-स्थानीय देव-जाति) में उत्पन्न होने का हेतु है (वृह १) ।

अभिओयण न [अभियोजन] देखो अभि-ओग (भाव; पण २०) ।

अभिगण } देखो अन्वगण (नाट, रंभा) । अभिजण }

अभिकंठ सक [अभि + काङ्क्ष्] इच्छा करना, चाहना । अभिकंठेत्ता (आचा) । वक्तु अभिकंठमाण (दस ६, ३) ।

अभिकत्ता स्त्री [अभिकाङ्क्षा] अभिनाया, इच्छा (आचा) ।

अभिकरिण } वि [अभिकाङ्क्षिन्] अभि-अभिकरिण } लापी, इच्छुक (पि ४०५, सुपा १२६) ।

अभिकंत वि [अभिक्रान्त] १ गत, अतिक्रान्त, 'अणभिकंत च खलु वमं सपेहाए' (आचा) । २ समुख गत । ३ प्रारब्ध । ४ उल्लंघित (आचा; सूत्र २, २) ।

अभिकम्म सक [अभि + क्रम्] १ जाना, गुजरना । २ सामने जाना । ३ उल्लंघन करना । ४ शुरु करना । वक्तु. अभिकम्ममाण (आचा) । नक्तु अभिकम्म (सूत्र १, १, २) ।

अभिकम्म पुं [अभिक्रम] १ उल्लंघन । २ प्रारम्भ । ३ संमुख-नामन । ४ गमन, गति (आचा) ।

अभिकख } अ [अभीक्षण] बारबार (उप अभिकखण } १४७ टी; ठा २, ४, वव ३) ।

अभिकखा स्त्री [अभिकखा] नाम (विदे १०४८) ।

अभिगच्छ सक [अभि + गम्] प्राप्त करना । अभिगच्छइ (दस ४, २१, २२, ६, २, २) ।

अभिगच्छ सक [अभि + गम्] सामने जाना । अभिगच्छंति (मग २, ६) ।

अभिगच्छणया स्त्री [अभिगमन] समुख-गमन (श्रीप) ।

अभिगच्छणा देखो अभिगच्छणया (वव १) ।

अभिगज्ज सक [अभि + गर्ज्] गर्जना, खूब जोर से आवाज करना । वक्तु अभि-गज्जंत (णया १, १८; सुर १३, १८२) ।

अभिगम देखो अभिगच्छ । कृ अभिगम-णीय (स ६७६) ।

अभिगम पुं [अभिगम] १ प्राप्ति, स्वीकार (पक्खि) । २ आदर, सत्कार (मग २, ५) । ३ (शुरु का) उपदेश, सीख (णया १, १) ।

४ ज्ञान, निश्चय - (पव १४६) । ५ सम्प-  
त्त्व का एक भेद (ठा २, १) । ६ प्रवेश  
- (से ८, ३३) ।

अभिगमण न [अभिगमण] ऊपर देखो  
(स्वप्न १६, णाया १, १२) ।

अभिगमि वि [अभिगमिन्] १ आदर  
करने वाला । २ उपदेशक । ३ निश्चय-कारक ।  
४ प्रवेश करने वाला ५ स्वीकार करने  
वाला, प्राप्त करने वाला (परण ३४) ।

अभिगय वि [अभिगत] - १ प्राप्त । २  
सक्त । ३ उपदिष्ट । ४ प्रविष्ट (वृह १) ।  
५ ज्ञात, निश्चित (णाया १, १) ।

अभिगहिय न [अभिग्रहिक] मिथ्यात्व-  
विशेष (कम्म ४, ५१) ।

अभिगिञ्ज्म अक [अभि + गृध्] अति  
नोम करना, आसक्त होना । वक्तु अभि-  
गिञ्ज्मति (सूत्र २, २) ।

अभिगिण्ह } सक [अभि + ग्रह्] ग्रहण  
अभिगिण्ह } करना, स्वीकारना । अभि-  
गिण्ह (कप्प) । सक अभिगिण्हिता,  
अभिगिञ्ज्म (पि ५८२, ठा २, १) ।

अभिग्गह पु [अभिग्रह] १ प्रतिज्ञा, नियम ।  
(श्लो ३) । २ जैन माधुसो का आचार-  
विशेष (वृह १) । ३ प्रध्यात्थान, (नियम-  
विशेष) का एक भेद (आव ६) । ४ कदा-  
ग्रह, हठ (ठा २, १) । ५ एक प्रकार का  
शारीरिक विनय (वव १) ।

अभिग्गहणी स्त्री [अभिग्रहणी] मापा का  
एक भेद, असत्य-मृपा वचन (संनोव २१) ।

अभिग्गहिय वि [अभिग्रहिक] अभिग्रह  
वाला (ठा २, १, पव ६) ।

अभिग्गहिय वि [अभिग्रहोत्] १ जिसके  
विषय में अभिग्रह किया गया हो वह  
(कप्प, पव ६) । २ न अवधारण, निश्चय  
(परण ११) ।

अभिघट्ट सक [अभि + घट्ट] वेग से  
जाना । कवक्तु अभिघट्टिज्जमाण (राय) ।

अभिघाय पुं [अभिघात] प्रहार, मार-पीट,  
हिंसा (परह १, १, वृह ४) ।

अभिचंद पुं [अभिचन्द्र] १ यदुवश के  
राजा अचकवृष्णि का एक पुत्र, जिसने जैन

दोहा ली थी (अंत ३) । २ इस नाम का  
एक कुलकर पुरुष (पउम ३, ५४) । ३  
मुहूर्त-विशेष । (सम ५१) ।

अभिजण देखो अभिअण (स्वप्न २६) ।

अभिजस न [अभियशस्] इस नाम का  
एक जैन साधुओं का कुल (एक आचार्य की  
सतति) (कप्प) ।

अभिजाइ स्त्री [अभिजाति] कुलीनता,  
खानदानी (उत्त ११) ।

अभिजाण सक [अभि + ज्ञा] जानना ।  
वक्तु अभिजाणमाण (आचा) ।

अभिजात पुं [अभिजात] पक्ष का ग्यारहवाँ  
दिन (सुव १०, १४) ।

अभिजाय वि [अभिजात] १ उत्पन्न, 'अभि-  
जायसइद्धो' (उत्त १४) । २ कुलीन (राज) ।

अभिजुंज सक [अभि + युज्] १ मन्त्र-  
तन्त्रादि से वश करता । २ कोई कार्य में  
लगाना । ३ आनिगन करना । ४ स्मरण  
कराना, याद दिलाना । संट्ट अभिजुजिय,  
अभिजुंजियाण, अभिजुंजित्ता (भग २,  
५, सूत्र १, ५, २, आचा, भग ३, ५) ।

अभिजुत्त वि [अभियुक्त] १ व्रत-नियम में  
जिसने दूषण न लगाया हो वह (णाया २,  
१४) । २ जानकार, परिष्ठत (रादि) ।  
३ दुश्मन से घिरा हुआ (वेणी १२०) ।  
अभिज्ज्मा स्त्री [अभिज्या] लोभ, लोलुपता,  
आसक्ति (मम ७१, परह १, ५) ।

अभिज्ज्मिय वि [अभिधियत] अभिनपित,  
वाञ्छित (परण २८) ।

अभिट्टिअ वि [अभीष्ट] अभिलपित (वजा  
१६४) ।

अभिट्टुय वि [अभिष्टुत] वर्णित, श्ला-  
घित, प्रशंसित (आव २) ।

अभिड्डुय देखो अभिदुट्टुय (सूत्र १, २,  
३) ।

अभिणअंत } देखो अभिणी  
अभिणइज्जत }

अभिणट्ट सक [अधि + नन्द्] १ प्रशंसा  
करना, स्तुति करना । २ आशीर्वाद देना ।  
३ प्रीति करना । ४ खुशी मनाना । ५ चाहना,  
इच्छा करना । ६ बहुमान करना, आदर करना ।

अभिणंदइ (स १६३) । वक्तु अभिणंदंत  
(श्लोप; णाया १, १, पउम ५, १३०) ।  
कवक्तु अभिणंदिज्जमाण (ठा ६, णाया  
१, १) ।

अभिणदिय वि [अभिचन्दित] जिसका  
अभिनन्दन किया गया हो वह (सुपा ३१०) ।  
अभिणदण न [अभिनन्दन] १ अभिनन्दन ।  
२ पुं वर्तमान अवसर्पणीकाल के चतुर्थ  
जिनदेव (सम ४३) । ३ लोकोत्तर श्रावणमाम ।  
(सुव १०) ।

अभिणय पु [अभिनय] शारीरिक चेष्टा के  
द्वारा हृदय का भाव प्रकाशित करना, नाट्य-  
क्रिया (ठा ४, ४) ।

अभिणव वि [अभिनव] नूतन, नया (जीव  
३) ।

अभिणिक्खत वि [अभिनिष्क्रान्त]  
दीक्षित, प्रव्रजित (म २७८) ।

अभिणिगिण्ह सक [अभिनि + ग्रह्]  
रोकना, अटकाना । सक अभिणिगिञ्ज्म  
(पि ३३१, ५६१) ।

अभिणिचारिया स्त्री [अभिनिचारिका]  
भिक्षा के लिए गति-विशेष (वव ४) ।

अभिणिपया स्त्री [अभिनिप्रजा] अलग-  
अलग रही हुई प्रजा (वव ६) ।

अभिणिवुज्ज्म सक [अभिनि + बुध्]  
जानना, इन्द्रिय आदि द्वारा निश्चित रूप से  
ज्ञान करना । अभिणिवुज्ज्म (विसे ८१) ।

अभिणिवोह पु [अभिनिवोध] ज्ञान-विशेष,  
मति-ज्ञान (सम्म ८६) ।

अभिणियट्टण न [अभिनिवर्त्तन] पीछे  
लौटना, वापस जाना (आचा) ।

अभिणिविट्ट वि [अभिनिविष्ट] १ तीव्र  
रूप से निविष्ट । २ आग्रही (उत्त १४) ।

अभिणिवेस पु [अभिनिवेश] आग्रह, हठ  
(णाया १, १२) ।

अभिणिवेसि वि [अभिनिवेशिन्] कदा-  
ग्रही (अज्ज १५७) ।

अभिणिवेह पु [अभिनिवेध] उलटा मापना  
(आवम) ।

अभिणिव्वागड वि [दे अभिनिव्याकृत]  
मिल परिधि वाला, प्रयम्भूत (घर बगैरह)  
(वव १, ६) ।

अभिणिञ्चट्ट सञ् [अभिनि + चट्ट] रोकना, प्रतिपेव करना, 'से मेहावी अभि-  
णिञ्चट्टेज्जा कोहं च माणं च मायं च तामं  
च पेज्ज च दोसं च मोहं च गर्भं च जम्मं  
च मारं च नरयं च तिग्गियं च दुक्खं च'  
(आचा)।

अभिणिञ्चट्ट सक [अनिर् + चट्ट] १  
संपादित करना, निष्पन्न करना। २ उत्पन्न  
करना। संकृ—अभिणिञ्चट्टित्ता, (भग  
५, ८)।

अभिणिञ्चट्ट वि [अभिनिचट्ट] १  
निष्पन्न। २ उत्पन्न, 'इहं सल्लु अत्ताए तेहि  
तेहि कुलेहि अभिसेएण अभिसंनूया अभि-  
सजाया अभिणिञ्चट्टा अभिसदुद्धा अभिसदुद्धा  
अभिनिक्खत्ता अणुपुच्चैया महासुणी' (आचा)।

अभिणिञ्चुड वि [अभिनिचट्ट] १ मुन,  
मोक्ष-प्राप्त (सूत्र १, २, १)। २ शान्त,  
अकृपित (आचा)। ३ पाप से निवृत्त (सूत्र  
१, २, १)।

अभिणिसज्जा क्री [अभिनिपद्या] जैन  
साधुओं के रहने का स्थान-विशेष (वव १)।

अभिणिसदु देवो अभिणिसिट्ट (सुज्ज २)।

अभिणिसिट्ट वि [अभिनिचट्ट] बाहर  
चित्रना हुआ (जीव ३)।

अभिणिसेहिया क्री [अभिनिपैधिकी] जैन  
साधुओं के स्वाध्याय करने का स्थान-विशेष  
(वव १)।

अभिणित्सव सक [अभिनिर् + सु] १  
निकलना। अभिणित्सवन्ति (राय ७४)।

अभिणी सक [अभि + नी] अभिनय करना,  
नाट्य करना। वकृ. अभिणयत (मै  
७५)। कवकृ. अभिणइत्तत (सुपा  
३५६)।

अभिणूम न [अभिणूम] माया, कपट (सुम  
१, २, १)।

अभिण्ण वि [अभिञ्] जानकार, निष्ण  
(उप ५८०)।

अभिण्ण वि [अभिञ्] १ अशुद्धित, अवि-  
दारित, अखण्डित (उवा, पंचा ११)।  
२ मेघरहित, अशुभमूत (वह ३)।

अभिण्णपुड पुं [दि] खाली पुष्टिया, लोगों

को खाने के लिए लडके जिनको रास्ता पर  
रख देने हैं (दि १, ४४)।

अभिण्णाय न [अभिज्ञान] निशानी, निह  
(आ १४)।

अभिण्णाय वि [अभिज्ञात] जाना हुआ,  
विदित (आचा)।

अभिण्णज्ज सक [अभि + तज्] विस्कार  
करना, ताहन करना। वकृ. अभिण्णज्जमाण  
(आया १, १८)।

अभिण्णत्त वि [अभिण्ण] १ तपाया हुआ,  
गरम किया हुआ (सूत्र १, ४, १, २७)।

अभिण्णव सक [अभि + तप्] १ तपाना।  
२ पीढा करना, 'चत्तारि अणुण्यो समार-  
मिता जेहि कूरकम्मा मित्रवित्ति, वानं' (सूत्र  
१, ५, १, १३)। कवकृ. अभिण्णवमाण,  
'ति तव्य चिट्ठवित्तिमप्यमारा मच्छा व जीवं-  
सुवजोत्तिपत्ता' (सूत्र १, ५, १, १३)।

अभिण्णव सक [अभि + ताप्य] १ तपाना,  
गरम करना। २ पीढित करना। अभिण्णवयति  
(सूत्र १, ५, १, २१, २२)।

अभिण्णव पुं [अभिण्ण] १ दाह। २ पीढा  
(सूत्र १, ५, १, २, ६)।

अभिण्णस सक [अभि + त्रास्य] घ्रास  
उपजाना भयभीत करना। वकृ. अभिण्णस-  
माण (आया १, १८)।

अभिण्णथु सक [अभि + स्तु] स्तुति करना,  
श्लाघा करना, वर्णन करना। अभिण्णथुण्ति,  
अभिण्णथुणामि (पि ४६४, विसे १०५४)।  
वकृ. अभिण्णथुमाण (कप्प)। कवकृ.  
अभिण्णथुवमाण (स्यण १८)।

अभिण्णथुय वि [अभिण्णुत] स्तुत, श्लाघित  
(सया)।

अभिण्णु देवो अभिण्णु। वकृ. अभिण्णुणंत  
(आया १, १)। कवकृ. अभिण्णुवमाण  
(कप्प, ठा ६)।

अभिण्णुग वि [अभिण्णुग] १ दु खोलादक  
स्थान। २ अतिविषम स्थान (सूत्र १, ५, १,  
१७)।

अभिण्णो (शौ) अ [अभिण्ण] चारों ओर से  
(स्वप्न ४२)।

अभिण्णव सक [अभि + ङु] पीढा करना,

दु ख उपजाना, हैरान करना, 'तुदत्ति वायाहि  
अभिण्णव एया' (आचा २, १६, २)।

अभिण्णविय वि [अभिण्णुत] उपदुत, हैरान  
किया हुआ (सुर १२, ६७)।

अभिण्णुय देवो अभिण्णुय (आया १,  
६, व ५६)।

अभिण्णइ वि [अभिण्णायिन्] वाचक,  
कहनेवाला (विसे ३४७२)।

अभिण्णार सक [अभि + धारय] १ चिन्तन  
करना। २ स्पष्ट करना। अभिण्णारए (दम ५,  
२, २५, उत २, २१), अभिण्णारयासो (सूत्र  
२, ६, १६)। वकृ. अभिण्णारयंत (उत्तनि  
३)।

अभिण्णारण न [अभिण्णारण] धारणा,  
चिन्तन (वह ३)।

अभिण्णेज्ज पुं [अभिण्णेय] अर्थ, वाच्य,  
अभिण्णेय } पदार्थ (विने १ टी)।

अभिण्णद देवो अभिण्णद। वकृ. अभिण्णद-  
माण (कप्प)। कवकृ. अभिण्णद्विज्जमाण  
(महा)।

अभिण्णदण देवो अभिण्णदण (कप्प)।

अभिण्णदि क्री [अभिण्णदि] आनन्द, सुखी;

'पावेव अ नंदित्तेणमभिनदि' (अजि ३७)।

अभिण्णिकसत देवो अभिण्णिकसंत (आचा)।

अभिण्णिकसम अक [अभिण्णिर् + क्रम्] १  
दीक्षा (संन्यास) लेना, दीक्षा लेने की इच्छा  
करना, गृहवास से बाहर निकलना। वकृ.  
अभिण्णिकसमंत (वि ३६७)।

अभिण्णिण्ह देवो अभिण्णिण्ह (आचा)।

अभिण्णिण्ह देवो अभिण्णिण्ह। अभिण्णि-  
ण्ह (विने ६८)।

अभिण्णिवट्ट देवो अभिण्णिवट्ट। संकृ. अभि-  
निवाट्टाण (पि ५८३)।

अभिण्णिविट्ट देवो अभिण्णिविट्ट (भग)।

अभिण्णिवेस सक [अभिण्णि + वेशय] १  
स्थापन करना। २ करना। अभिण्णिवेसए  
(दस ८, ५६)।

अभिण्णिवेसिय न [अभिण्णिवेशिक] मिया-  
त्व का एक प्रकार, सत्य वस्तु का ज्ञान होने  
पर भी उसे नहीं मानने का दुराग्रह (आ ६-  
कम्म ४, ५१)।

अभिनिवृट्ट देखो अभिणिवृट्ट (कप्, आचा) ।  
 अभिनिवृट्ट भ्रक [अभिनि + वृत् ] घृयक् होना । वृक अभिनिवृट्टमाण (सू २, ३, २१) ।  
 अभिनिवृट्ट सक [अभिनि + वृत् ] व्रीचता । संकृ 'कोसामो भ्रसि अभिनिवृट्टिता (सू २, १, १६) ।  
 अभिनिवृट्टागड वि [अभिनिवृट्टाकृत] विभिन्न द्वार वाला (मकान) । (वव १ टी) ।  
 अभिनिवृट्ट वि [अभिनिवृट्ट] सजात, उत्पन्न (कप्) ।  
 अभिनिवृट्ट देखो अभिनिवृट्ट (पि २१६) ।  
 अभिनिसट वि [अभिनि सट] जिसका स्तम्भ प्रदेश बाहर निकल आया हो वह (भग १५, पत्र ६६६) ।  
 अभिनिस्सव देखो अभिनिस्सव अभिनिस्सवति (राय ७५) ।  
 अभिनिस्सव भ्रक [अभिनि + सु] टपकना, करना । अभिनिस्सवइ (भग) ।  
 अभिन्न देखो अभिण (प्राप्र) ।  
 अभिन्नाण देखो अभिण्णाण (श्लो ४३६, सुर ७, १०१) ।  
 अभिन्नाय देखो अभिण्णाय (कप्) ।  
 अभिपह्लाणिय वि [अभिपयोगित] अघ्यारोपित, ऊपर रखा हुआ (कुमा) ।  
 अभिपवुट्ट वि [अभिपवृट्ट] वरसा हुआ (आचा २, ३, १, १) ।  
 अभिपाइय वि [आभिप्रायिक] अभिप्राय सम्बन्धी, मन कल्पित (अणु) ।  
 अभिप्पाय पु [अभिप्राय] आशय, मन-परिणाम (आचा, स ३४, सुपा २६२) ।  
 अभिप्पेय वि [अभिप्रेत] इष्ट, अभिमत (म २३) ।  
 अभिभव सक [अभि + भू] परामव करना, परास्त करना । अभिभवइ (महा) । संकृ अभिभविय, अभिभूय (भग ६, ३३, परह १, २) ।  
 अभिभव पुं [अभिभव] परामव, पराजय, तिरस्कार (आचा, दे १, ५७) ।  
 अभिभवन न [अभिभवन] ऊपर देखो (सुपा ४७६) ।

अभिभास सक [अभि + भाप्] संभाषण-करना । अभिभासे (पि १६६) ।  
 अभिभूइ स्त्री [अभिभूति] परामव, अभिभव (द्र ३०) ।  
 अभिभूय वि [अभिभूत] पराभूत, पराजित (आचा, सुर ४, ७०) ।  
 अभिमंजु देखो अभिमण्णु (हे ४, ३०५) ।  
 अभिमत सक [अभि + मन्त्र्य] मन्त्रित करना, मन्त्र से सस्कारना । संकृ अभिमतिऊण, अभिमतिय (निचू १, आवम) ।  
 अभिमंतिय वि [अभिमन्त्रित] मन्त्र से सस्कारित (सुर १६, ६२) ।  
 अभिमन्न सक [अभि + मन्] १ अभिमान करना । २ सम्मत करना । अभिमन्नइ (विसे २१६०, २६०३) ।  
 अभिमय वि [अभिमत] इष्ट, अभिप्रेत (सू २, ४) ।  
 अभिमाण पु [अभिमान] अभिमान, गर्व (निचू १) ।  
 अभिमार पु [अभिमार] वृक्ष विशेष (राज) ।  
 अभिमुह वि [अभिमुख] १ समुख, सामने स्थित । २ क्विपि सामने (भग) ।  
 अभिमुहिय वि [अभिमुखित] समुख किया हुआ (सूत्रनि १४६) ।  
 अभियागम पु [अभ्यागम] समुख आगमन (सूत्र १, १, ३, २) ।  
 अभियावन्न वि [अभ्यापन्न] समुख प्राप्त (सूत्र १, ४, २, २८) ।  
 अभिरइ स्त्री [अभिरति] १ रति, समोग । २ प्रीति, अनुराग, (विसे ३२२३) ।  
 अभिरम भ्रक [अभि + रम्] १ क्रीडा करना, समोग करना । २ प्रीति करना । ३ तल्लीन होना, आसक्ति करना । अभिरमइ (महा) । वृक. अभिरसंत, अभिरममाण (सुपा १२०, णाया १, २, ४) ।  
 अभिरमिय वि [अभिरमित] अनुरक्त किया हुआ, 'अभिरमियकुमुयवणसडं ससिमंडल पलो-यइ' (सुपा ३४) ।  
 अभिरमिय वि [अभिरमित] संभुक्त, 'जिण-मिरमिय परकलत्' (वमंवि १२८) ।  
 अभिरमिय वि [अभिरत] १ अनुरक्त (सुपा अभिरय } ३४) । २ तल्लीन, तत्पर: 'साह

तवनियमसंजमाभिरया' (पउम ३७, ६३, स १२२) ।  
 अभिराम वि [अभिराम] सुन्दर, मनोहर (णाया १, १३, स्वप्न ४५) ।  
 अभिराम सक [अभि + रामय] तत्परता मे कार्य मे लगाना । अभिरामयति (वस ६, ४, १) ।  
 अभिरुइय वि [अभिरुचित] पसद, मन का अभिमत (णाया १, १, उवा, सुपा ३४४-महा) ।  
 अभिरुय सक [अभि + रुच्] पसंद पढना, रचना । अभिरुयइ (महा) ।  
 अभिरुयसि वि [अभिरुपिन्] सुन्दर रूप वाला, मनोहर (आचा २, ४, २, १) ।  
 अभिरुइ सक [अभि + रुह्] १ रोकना । २ ऊपर चढना, आरोहना । संकृ 'चत्तारि साहिए मासे वहवे पाणजाइया आगम्म । अभिरुइ काय विहरिस्सु, आरुहिया ण तत्थ हिंसिस्सु' (आचा) ।  
 अभिरोहिय वि [अभिरोधित] चारो ओर से निरुद्ध, रोक हुआ (णाया १, ६) ।  
 अभिरोहिय वि [अभिरोहित] ऊपर देखो, 'परचक्रारायाभिरुहिया', ('परचक्राराजेनापरमै-न्यनृपतिनाभिरुहिता सर्वंत कृतनिरोधा या सा तथा' टी) (णाया १, ६) ।  
 अभिलघ सक [अभि + लड्च्] उल्ल-घन करना । वृक अभिलघमाण (णाया १, १) ।  
 अभिलप्प वि [अभिलाप्य] कथन-योग्य, निवचनीय (आचू १) ।  
 अभिलस सक [अभि + लप्] चाहना, वाञ्छना । अभिलसइ (उव) ।  
 अभिलाअ पुं [अभिलाप] १ शब्द, अभिलाव } ध्वनि (ठा ३, १, भास २७) । २ सभाषण (णाया १, ८, विसे) ।  
 अभिलास पुं [अभिलाप] इच्छा, चाह (णाया १, ६, प्रयी ६१) ।  
 अभिलासि वि [अभिलापिन्] चाहने अभिलासिण } वाला, इच्छुक (वसु, स ६५४-पउम ३१, १२८) ।

अभिलासुग वि [अभिलापुक] श्रमिनापी  
(उप ३५७ टी) ।  
अभिलोयण न [अभिलोसुन] जहाँ खडे रह  
कर दूर की चीज देखी जाय वह म्यान  
(पएह २, ४) ।  
अभिलोयण न [अभिलोचन] ऊपर देखी  
(पएह २, ४) ।  
अभिवद सक [अभि + वन्द] नमस्कार  
करना, प्रणाम करना । वहु अभिवदत  
(पटम २३, ६), कृ 'जे नाहुणो ते अभि-  
चदियव्या' (नीय १८), अभिवदणिल्ल  
(विमे २६४३) ।  
अभिवदणा ली [अभिवन्दना] प्रणाम, नम-  
स्कार (चिडय ६३६) ।  
अभिवदय वि [अभिवन्दक] प्रणाम करने  
वाला (शोष) ।  
अभिवदह सक [अभि + वृध्] बढ़ना,  
बड़ा होना, उन्नत होना । अभिवदहामो, मूका,  
अभिवदहिल्या (कण्) । वहु अभिवदहमाग  
(ज ७) ।  
अभिवदह् देवो अभिवदह् (इक) ।  
अभिवदह् देवो अहिवदह् (सुज १०  
१२ टी) ।  
अभिवदह्दय वि [अभिवर्धिन] १ बढ़ाया  
हुआ । २ अधिक मात्र । ३ अधिक मात्रवाला  
वर्ष (सम ५६, चन्द ११) ।  
अभिवदह्दे नक [अभि + वधेय] बढ़ाना ।  
अभिवदह्दि (सुज ६) । वहु अभिवदह्देमाग  
(सुज ६) । महु अभिवदह्देत्ता (सुज ६) ।  
अभिवत्त वि [अभिव्यक्त] आविर्भूत  
(धर्मस ८८) ।  
अभिवत्ति ली [अभिव्यक्ति] प्रादुर्भाव  
(उप २८५) ।  
अभिवय सक [अभि + व्रज्] सामने  
जाना । वहु अभिवयत (एगाया १, ८) ।  
अभिवाइय वि [अभिवदित्त] प्रणत, नम-  
स्कृत (सुपा ३१०) ।  
अभिवात पु [अभिवात] १ सामने का  
पवन । २ प्रतिकूल (गरम वा रुदा) पवन  
(श्राचा) ।  
अभिवाद } सक [अभि + वाद्य] प्रणाम  
अभिवाय } करना, नमस्कार करना । श्रमि-

वाएइ (महा) । श्रमिवादये (विने १०१४) ।  
वहु अभिवायमाण (श्राचा) । कृ अभि-  
वायणिल्ल (सुपा ५६८) ।  
अभिवाय देवो अभिवात (श्राचा) ।  
अभिवायण न [अभिवादन] प्रणाम, नम-  
स्कार (श्राचा, दमवृ) ।  
अभिवाहरण न [अभिव्याहरण] बुलाहट,  
पुकार (पत्रा २) ।  
अभिवाहार पु [अभिव्याहार] प्रशोत्तर,  
नबाल-जवाव (विने ३३६६) ।  
अभिविहि पुत्री [अभिविधि] मर्यादा, व्याप्ति  
(पचा १५, विने ८७८) ।  
अभिवुद्धि ली [अभिवृष्टि] वृष्टि, वर्षा (पत्र  
४०) ।  
अभिवुद्ध देवो अभिवुद्ध । सक अभि-  
वुद्धित्ता (सुज १) ।  
अभिवुद्धि ली [अभिवृद्धि] १ वृद्धि,  
बढ़ाव । २ उत्तरनादप्रद नज्ञय वा श्रयिष्ठाता  
देव (ज ७) ।  
अभिवुद्धे देवो अभिवुद्धे । सक अभि-  
वुद्धेत्ता (सुज ६) ।  
अभिवेदणा ली [अभिवेदना] श्रयन्त पीढा  
(सूय १, ५, १, १६) ।  
अभिव्यजण न [अभिव्यज्जत] देवो अभि-  
वत्ति (गृय १, १, १) ।  
अभिव्याहार देवो अभिवाहार (विने  
३५१०) ।  
अभिसकण न [अभिगङ्कन] शका, वहम  
(सवोच ४६) ।  
अभिसका ली [अभिगङ्का] शयय, चदेह  
(सूय १, ६, १, १८) ।  
अभिसंकि वि [अभिगङ्किन्] १ संदेह करने-  
वाला । २ शोक, डरनेवाला, 'उज्जु मारा-  
मिर्सकी मरणा पमुचति' (श्राचा, एगाया  
१, १८) ।  
अभिसंग पु [अभिप्वङ्ग] श्रामक्ति (ठा  
३, ४) ।  
अभिसजाय वि [अभिसजात] उत्पन्न  
(श्राचा) ।  
अभिसद्युण सक [अभिसं + स्तु] स्तुति  
करना, वणन करना । वहु अभिसंद्युणमाण  
(एगाया १, ८) ।

अभिमधारण न [अभिसधारण] पर्या-  
नोचन, विचारना (श्राचा) ।  
अभिसधि पुत्री [अभिसधि] श्रायय, श्रमि-  
प्राय (उप २११ टी) ।  
अभिसधिय वि [अभिसहित] गृहीत, उपात  
(श्राचा) ।  
अभिसंभूय वि [अभिमभूत] उत्पन्न, प्रादु-  
र्भूत (श्राचा) ।  
अभिसवुद्ध वि [अभिमवुद्ध] ज्ञान-प्राप्त,  
बोध-प्राप्त (श्राचा) ।  
अभिमवुद्धे वि [अभिसवुद्ध] बटा हुआ,  
उन्नत श्रवस्या को प्राप्त (श्राचा) ।  
अभिममणगाय वि [अभिममन्वागत]  
अभिसमन्नागय १ श्रच्छी तरह जाना  
हुआ, नुतिर्णित (नग ५, ४) । २ व्यवस्थित  
(सूय २, १) । ३ प्राप्त, लब्ध (मग १५, कण,  
एगाया १, ८) ।  
अभिसमागम नक [अभिममा + गम्]  
१ सामने जाना । २ प्राप्त करना । ३ निर्णय  
करना, ठीक-ठीक जानना । सक. अभिसमा-  
गम्म (श्राचा, दस ५) ।  
अभिममागम पुं [अभिममागम] १ समुच्च  
गमन । २ प्राप्ति । ३ निर्णय (ठा ३, ४) ।  
अभिसमे नक [अभिममा + ड] देवो अभि-  
समागम = श्रमिममा + गम् । श्रमिममेइ (ठा  
३, ४) । सक अभिसमेच्च (श्राचा) ।  
अभिसर सक [अभि + सृ] प्रिय के पास  
जाना । वहु अभिसरत (मोह ६१) ।  
अभिसरण न [अभिसरण] १ सामने जाना,  
समुच्च गमन (पएह १, १) । २ प्रिय के पास  
जाना (कुमा) ।  
अभिसव पु [अभिपव] १ मद्य आदि का  
श्रवण । २ मद्य मात्र आदि से मिश्रित चीज  
(पव ६) ।  
अभिसारिआ देवो अहिसारिआ (गा  
८७१) ।  
अभिसिच नक [अभि + सिच्] श्रमिपेक  
करना । श्रमिसिचित (कण्) । कवहु अभि-  
सिचमाण (कण्) । प्रयो, हेहु अभिसिचा-  
वित्तए (पि ५७८) ।  
अभिसिच वि [अभिपिक्त] जिसका श्रमि-  
पेक किया गया हो वह (श्रावम) ।

अभिसेअ } पुं [अभिपेक] १ राजा, आचार्य  
अभिसेग } आदिपद पर आरुढ करना (सथा-  
महा) । २ स्नान-महोत्सव, 'जिष्णामिसेगे'  
(सुपा ५०) । ३ स्नान (श्रौपः स ३२) । ४  
जहा पर अभिपेक किया जाता है वह स्थान  
(भग) । ५ शुक शोणित का संयोग, 'इह खलु  
श्रतत्ताए तेहि तेहि कुलोहि अभिसेएण अनि  
सभूया' (त्राचा १, ६, १) । ६ वि आचार्य  
आदि पद के योग्य (बृह ३) । ७ अभिपिक्त  
(निचू १५) ।

अभिसेगा स्त्री [अभिपेका] १ सावनी, सन्धा-  
सिनी (निचू १५) । २ साध्वियों की मुखिया,  
प्रवर्तिनी (धर्म ३, निचू ६) ।

अभिसेजा स्त्री [अभिश्य्या] देवों अभि-  
णिसजा (वव १) । २ मित्र स्थान (विने  
३४६१) ।

अभिसेत्रण न [अभिपेवण] पूजा, नेवा,  
भक्ति (पउम १४, ४६) ।

अभिसेवि वि [अभिपेविन] नेवा कर्ता (सूत्र  
२, ६, ४४) ।

अभिसेग पु [अभिष्वङ्ग] आनक्ति (विने  
२६६५) ।

अभिहट्टु अ [अभिहृत्य] बलाकार करके,  
जबरदस्ती करके (आचा, पि ५७७) ।

अभिहड वि [अभिहृत] १ सामने लाया  
हुआ (पचा १३) । २ जैन साधुओं की भिक्षा  
का एक दोष (ठा ३, ४) ।

अभिहण मक [अभि + हन्] मारना, हिंसा  
करना (पि ४६६) । वृह. अभिहणमाण  
(ज ३) ।

अभिहणण न [अभिहनन] अभिघात, हिंसा  
(भग ८, ७) ।

अभिहय वि [अभिहत] मारा हुआ, ग्राहत  
(पडि) ।

अभिहा स्त्री [अभिघा] नाम, ग्राह्या (सण) ।  
अभिहाण न [अभिघान] १ नाम, ग्राह्या  
(कुमा) । २ वाचक, शब्द (वव ६) । ३  
कथन, उक्ति (विसे) ।

अभिहाण न [अभिघान] १ उच्चारण  
(सूत्रनि १३८) । २ कथन, उक्ति (धर्मस  
११११) । ३ कोशग्रन्थ (वेदय ७४) ।

अभिहिय वि [अभिहित] कथित, उक्त  
(आचा) ।

अभिहेअ वि [अभिधेय] वाच्य, पदार्थ  
(विसे ८४१) ।

अभोइ } स्त्री [अभिजित्] १ नक्षत्र-  
अभोजि } विशेष (मम ८, १५) । २ पु. एक  
राजकुमार (भग १३, ६) । ३ राजा श्रेणिक  
का एक पुत्र, जिसने जैन दीक्षा ली थी (अनु) ।

अभोरु वि [अभोरु] १ निडर, निर्भीक  
(आचा) । २ स्त्री मध्यम ग्राम की एक मूर्च्छता  
(ठा ७) ।

अभेज्जा देवो अभिज्जा (परह १, ३) ।

अभोज्ज वि [अभोज्य] भोजन के अयोग्य  
(णाय १, १६) । 'घर न [गृह] भिक्षा  
के लिए अयोग्य घर, घोवी आदि नीच जाति  
का घर (बृह १) ।

अम सक [अम्] १ जाना । २ आवाज  
करना । ३ खाना । ४ पीडना । ५ अक  
रोगी होना, 'अम गच्चाइनु' (विसे ३४५३),  
'अम रोगे वा' (विसे ३४५४) । अमइ (विसे  
३४५३) ।

अमग्ग पु [अमार्ग] १ कुमार्ग, खराब रास्ता  
(जव) । २ मित्यात्व, कपाय आदि हेय पदार्थ,  
'अमग्ग परियाणामि मग्ग उपसपजामि'  
(आव ८) । ३ कुमत, कुदरान (दस) ।

अमग्घाय पु [अमाघात] १ द्रव्य का अ-  
हरण । २ मारिनिवारण, अमय घोषणा (पचा  
६) ।

अमच्च पु [अमात्य] मन्त्री, प्रधान (श्रौप, सुर  
४, १०४) ।

अमच्च पुं [अमर्त्य] देव, देवता (कुमा) ।

अमच्च वि [अमध्य] १ मध्य रहित, अखण्ड  
(ठा ३, २) । २ परमाणु (भग २०, ६) ।

अमण न [अमन] १ ज्ञान, निर्णय (ठा ३,  
४) । २ अन्त, अवसान (विसे ३४५३) ।

अमण } वि [अमनस्क] १ अप्रतीतिकर,  
अमणक्ख } अमोष्ट (ठा ३, ३) । ३ मनरहित  
(आव ४, सूत्र २, ४, २) ।

अमणाम वि [अमनआप] अनिष्ट, अमनोहर  
(सम १४६, विपा १, १) ।

अमणाम वि [अमनोम] ऊपर देखो (भग;  
विपा १, १) ।

अमणाम वि [अवनाम] पीड़ा-कारक, दु खो-  
त्पादक (सूत्र २, १) ।

अमणुस्स पु [अमनुष्य] १ मनुष्य भिन्न देव  
आदि (णदि) । २ नपुंसक (निचू १) ।

अमत्त न [अमत्र] भाजन, पात्र (सूत्र १, ६) ।

अमम वि [अमम] १ ममता रहित, नि स्पृह  
(परह २, ५, सुपा ५००) । २ पु आगामी  
काल में होने वाले एक जिनदेव का नाम  
(सम १५३) । ३ युग्म रूप से होने वाले  
मनुष्यों की एक जाति (ज ४) । दिन के  
२५ वां मुहुर्त का नाम (चंद १०) । 'त्त वि  
[त्वं] नि स्पृह, ममता-रहित (पचव ४) ।

अमय वि [अमय] विकार-रहित,  
'अमयो य होइ जीवो, कारणविरहा  
जहेव आगाम ।

समय च होअनिच, मिम्मयवडततुमाईय'  
(विसे) ।

अमय न [अमृत] १ अमृत, सुधा (प्रासू  
६६) । २ क्षीर समुद्र का पानी (राय) । ३  
पु मोक्ष, मुक्ति (सम्म १६७, प्रामा) । ४

वि नहीं मरा हुआ, जीवित, 'अमयो ह नय  
विमुच्चामि' (पउम ३३, ८२) । 'कर पु [कर]  
चन्द्र, चन्द्रमा (उज ७६८ टी) । 'किरण पु  
[किरण] चन्द्र (सुपा ३७७) । 'कुड पुं  
[कुण्ड] चन्द्र, चाँद (आ २७) । 'घोस पुं  
[घोष] एक राजा का नाम (संथा) । 'फल  
न [फल] अमृतोपम फल (णाय १, ६) ।

'मइय—मय वि [मय] अमृत-पूर्ण (कुमा,  
सुर ३, १२१, २३३) । 'मऊह पु [मयूख]  
चन्द्र (मै ६८) । 'वल्लरि, 'वल्लरी स्त्री  
[वल्लरि, 'री] अमृतलता, वल्ली-विशेष,  
गुहूची । 'वल्लि, 'वल्ली स्त्री [वल्लि,  
'ल्ली] वल्ली-विशेष, गुहूची (आ २०, पव  
४) । 'वास पु [वर्ष] सुधा-वृष्टि (आचा) ।  
देखो अमिय = अमृत ।

अमय पु [दे] १ चन्द्र, चन्द्रमा (दे १, १५) ।  
२ असुर, दैत्य (पड) ।

अमयघडिअ पु [दे. अमृतघटित] चन्द्रमा,  
चाँद (कुप्र २१) ।

अमयणिग्गाम पु [दे अमृतनिर्गम] १  
चन्द्र, चन्द्रमा (दे १, १५) ।

अमर वि [आमर] दिव्य, देव-सम्बन्धी, 'अमरा  
आज्जेया' (पउम ६१, ४६) ।



अमर पुं [अमर] १ देव, देवता (पाद्य) । २ मुक्त आत्मा (श्रीष) । ३ नगवान् अमरभदेव का एक पुत्र (राज) । ४ अमरन्तवीर्यं नामक भावी जिनदेव के पूर्वजन्म का नाम (ती २१) । ५ वि मरणरहित, 'पावति अविग्रेण जीवा अयरात्म ठरण' (पडि) । ६ कंका स्त्री [कंका] एक नगरी का नाम (उप ६४८ टी) । ७ कंड पु [कंतु] एक राजकुमार (दंस) । ८ गिरि पुं [गिरि] मेरु पर्वत (पटम ६५, ६७) । ९ गेह न [गेह] स्वर्ग (उप ७२८ टी) । १० चन्द्रण न [चन्द्रण] १ हरिचन्द्रन वृत्र । २ एक प्रकार का मुगन्वित काष्ठ (पाद्य) । ३ तरु पु [तरु] कल्पवृक्ष (मुपा ४८) । ४ दन्त पु [दन्त] एक श्रेष्ठि-पुत्र का नाम (धम्म) । ५ नाह पु [नाय] इन्द्र (पटम १०१, ७५) । ६ पुर न [पुर] स्वर्ग (पटम २१४) । ७ पुरी स्त्री [पुरी] स्वर्गपुरी, अमरावती (उप १०५) । ८ पभ पुं [प्रभ] चानर-द्वीप का एक राजा (पटम ६, ६६) । ९ वइ पु [पति] इन्द्र (पटम १०१, ७०, नुर १, १) । १० वहु स्त्री [वधू] देवी (महा) । ११ सामि पु [स्वामिन] इन्द्र (विसे १४३६ टी) । १२ सेण पु [सेन] १ एक राजा का नाम (दंस) । २ एक राजकुमार का नाम (राया १, ८) । ३ लय पि [लय] स्वर्ग, 'चविस्ममरालयाए' (उप ७२८ टी, मुपा ३५) । ४ गइ स्त्री [वती] १ देव-नगरी, स्वर्ग-पुरी (पाद्य) । २ मर्त्य लोक की एक नगरी, राजा श्रीसेन की राजधानी (उप ६८६ टी) ।

अमरंगणा स्त्री [अमराङ्गना] देवी (श्रा २७) ।

अमरिन्द्र पु [अमरेन्द्र] देवों का राजा, इन्द्र (भवि) ।

अमरिम पु [अमरि] १ अमरहिष्णुता (हे २, १०५) । २ कदाग्रह (उत्त ३४) । ३ क्रोव, गुप्ता (पएह १, ३, पाद्य) ।

अमरिसण न [अमरिण] १—३ ऊपर देवों । ४ वि अमरहिष्णु, क्रोवी (पएह १, ४) । ५ सहिष्णु, क्षमाशील (सम १५३) ।

अमरिसण वि [अमरिण] उद्यमी, उद्योगी (सम १५३) ।

अमरिसिय वि [अमरिपित] १ मत्सरी, अस-हिष्णु (श्रावम, स ५६५) ।

अमरी स्त्री [अमरी] देवी (कुमा) ।

अमरोम पु [अमरेश] इन्द्र (विद्य ३१०) ।

अमल वि [अमल] १ निर्मल, स्वच्छ (उप, सुपा ३४) । २ पुं नगवान् अमरभदेव के एक पुत्र का नाम (राज) ।

अमला स्त्री [अमला] गरु की एक अमर-महिषी का नाम, इन्द्राणी-विशेष (ठा ८) ।

अमवम्सा देवी अमावसा (पत्रा १६, २०) ।

अमाइ } वि [अमायिन्] निष्पट, सरल  
अमाइल } (श्रावा, ठा १०, द्र ४७) ।

अमाचाय देवो अमरवाय (उत्ता) ।

अमाण वि [अमान] १ गवर्हरित, नम्र (कप्य) । २ असत्य, 'ठाण्ठाणविलोइज्जमा-रामापोमहिचमूहो' (उप ६ टी) ।

अमाय वि [अमान] नहीं उमाया हुआ, 'मुसाहुवगल्स मणे अनाया' (उत्त ३१) ।

अमाय वि [अमाय] निष्पट, नरल (कप्य) ।

अमायि देखा अमाइ (भग) ।

अमारि स्त्री [अमारि] हिंसा-निवारण, जीवित-दान (मुपा ११२) । १ वोस पु [वोष] अहिंसा की घोषणा (मुपा ३०६) । २ पटह पु [पटह] हिंसा-निषेध का इरिडम, 'अमा रिपटह च वोसावेइ' (रयण ६०) ।

अमावसा } स्त्री [अमावास्या] तिथि  
अमावस्सा } विशेष, अमावन (कप्य, मुपा  
अमावासा } २२६, राया १, १०, चद  
१०) ।

अमिज्ज वि [अमेय] माप करने के लिए अशक्य, असंख्य (कप्य) ।

अमिक्क न [अमेघ्य] १ अशुचि वस्तु 'नरि-यममिक्कस्स दुर्अहिगवन्स' (उप ७२८ टी) । २ विष्टा (मुपा ३१३) ।

अमित्त पुंन [अमित्र] निपु, दुश्मन (ठा, ४, ४, से ५, १७) ।

अमिय देवो अमय = अमृत (प्रातू १, गा २, विसे, श्रावम, पिग) । १ कुड न [कुण्ड] नार विशेष का नाम (मुपा ५७८) । २ गइ स्त्री [गति] एक अमृत का नाम (पिग) । ३ गणि पुं [गानिच] ऐरवत क्षेत्र के एक

तीर्थर देव का नाम (सम १५३) । ४ भूय वि [भूत] अमृत-वृक्ष (श्राव) । ५ मेह पुं [मेघ] अमृतवर्षा (जं ३) । ६ रुड पुं [रुचि] चन्द्र, चन्द्रमा (श्रा १६) ।

अमिय वि [अमित] परिमाण-रहित, असंख्य, अनन्त (भा ५, ४, मुपा ३१, श्रा २७) । १ गइ पु [गति] दक्षिण दिशा के एक इन्द्र का नाम, दिक्कुमारों का इन्द्र (ठा २, ३) । २ जस पु [यशस्] एक चक्रवर्ती राजा का नाम (महा) । ३ गणि वि [गानिच] १ सर्वत्र (विने) । २ ऐरवत क्षेत्र के एक जिन-देव का नाम (सम १५३) । ३ तेय पु [तेजस्] एक जैन मुनि का नाम (उप ७६८ टी) । ४ वल पुं [वल] इन्द्राकु वर के एक राजा का नाम (पटम ९, ४) । ५ वाहण पु [वाहन] दिक्कुमार देवों के एक इन्द्र का नाम (ठा २, ३) । ६ वेग पुं [वेग] राजस वंश के एक राजा का नाम (पटम ९, २६१) । ७ सणिय वि [सनिक्क] एक न्यान पर नहीं बैठनेवाला, चंचल (कप्य) ।

अमिल न [दि] ऊन का बना हुआ वस्त्र (श्रा १८) । २ पुं नेप, मेढ (श्रीष ३६८) ।

अमिल वि [दि आमिल] अमिल देव में बना हुआ (श्रावा २, ५, १५) ।

अमिला स्त्री [अमिला] १ वीसवें जिनदेव की प्रथम शिष्या (सम १५२) । २ पाठी, छोटी नैस (वृह १) ।

अमिलाण } वि [अम्लान] १ न्यान-  
अमिलाय } रहित, ताजा, हृष्ट (नुर ३, ६५, भग ११, ११) । २ पुं कुरएत्क वृक्ष । ३ न कुरएत्क वृक्ष का पुष्प (दे १, ३७) ।

अमु स [अदस्] वह, अमुक (पि ४३२) ।

अमुअ स [अमुक] वह, कोई, अमका-उमका (श्रीष ३२ भा, मुपा ३१४) ।

अमुअ देवो अमय = अमृत (प्रातू ५१, गा ६७६) ।

अमुअ देवो अमय = अमय (काप्र ७७७) ।

अमुअ वि [अमृत] न्मरण में नहीं आया हुआ (भग ३, ६) ।

अमुइ वि [अमोचिन्] नहीं छोड़नेवाला (उप) ।

अमुग देवो अमुअ = अमुक (कुमा) ।

अमुगत्य वि [अमुत्र] अमुक्त स्थान में (मुपा ६०२) ।  
 अमुण वि [अज्ञ] अज्ञान, मूर्ख (वृह १) ।  
 अमुणिय वि [अज्ञाव] अविदित (मुर ४, २०) ।  
 अमुणिय वि [अज्ञान] मूर्ख, अज्ञान (परह १, २) ।  
 अमुत्त वि [अमुक्त] अपरित्यक्त (ठा १०) ।  
 अमुत्त वि [अमूर्त्त] रूपरहित, निराकार (मुर १४ ३६) ।  
 अमुदग्ग } न [अमुदग्र] १ अतीन्द्रिय  
 अमुयग्ग } मिय्याज्ञान विशेष, जैन देवताओं  
 के पुद्गलरहित शरीर को देखकर जीव का  
 शरीर पुद्गल से निर्मित नहीं है ऐसा निर्णय  
 (ठा ७) ।  
 अमुस वि [अमृष] सच्चा, सत्य, 'अमुत्ते वरं'  
 (सूत्र १, १०, १२) ।  
 अमुसा स्त्री [अमृषा] सत्यवचन (सूत्र १,  
 १०) । वाइ वि [वादिन्] सत्यवादी  
 (कुमा) ।  
 अमुह वि [अमुख] निहत्तर (वव ६) ।  
 अमुहरि वि [अमुखरिन्] अवाचाल, मित-  
 भाषी (उत्त १) ।  
 अमूढ वि [अमूढ] अमुग्व, विचक्षण (एगाया  
 १, ६) । °णाग न [°ज्ञान] सत्य ज्ञान  
 (भावम) । °दिट्ठि स्त्री [°दृष्टि] १  
 सम्यग्दर्शन (पव ६) । २ अविचलित बुद्धि  
 (उत्त २) । ३ वि अविचलित दृष्टि वाला,  
 सम्यग्दृष्टि (गच्छ १) ।  
 अमूस वि [अमृष] सत्यवादी (कुमा) ।  
 अमेज्ज देखो अमिज्ज (भग ११, ११) ।  
 अमेज्जम् देखो अमिज्जम् (महा) ।  
 अमोल्ल वि [अमूल्य] जिसकी कीमत न हो  
 सके वह, बहुमूल्य (गउड, मुपा ५१६) ।  
 अमोसलि न [दे. अमुशलि] बन्ध्यादि निरी-  
 क्षण का एक प्रकार (शोध २६५) ।  
 अमोसा देखो अमुसा (कुमा) ।  
 अमोह वि [अमोघ] १ अवन्य, मफल  
 (मुपा ८३, ५७५) । २ पुं सूर्य के उदय  
 और अस्त के समय किरणों के विकार न होने  
 वाली रेखा विशेष (भग ३, ६) । एक  
 यज्ञ का नाम (विपा १, ४) । °दंसि वि

[°दंशिन] १ ठीक-ठीक देखनेवाला (दस  
 ६) । २ न. ज्ञान-विशेष । ३ पु. यज्ञ-विशेष  
 (विपा १, ३) । °पहारि वि [°प्रहारिन्]  
 अन्नक प्रहार करनेवाला, निशानवाज (महा) ।  
 °रह पु [°रथ] इस नाम का एक रथिक  
 (महा) ।  
 अमोह पुं [अमोह] १ मोह का अभाव, सत्य-  
 ग्रह (विसे) । २ हृदय पर्वत का एक शिखर  
 (ठा ८) । ३ वि मोहरहित, निर्मोह (मुपा  
 ८३) ।  
 अमोह पु [अमोघ] १ सूर्य-चिम्ब के नीचे  
 कभी-कभी दोखती श्याम आदि बर्णवाली रेखा  
 (अगु १२१) । २ पुन. एक देवविमान  
 (देवेन्द्र १४४) ।  
 अमोहण न [अमोहन] १ मोह का अभाव  
 (वव १०) । २ वि मुग्ध नहीं करनेवाला  
 (कप्प) ।  
 अमोहा स्त्री [अमोघा] १ एक जम्बूद्वीप,  
 जिसके नाम से यह जम्बूद्वीप कहलाता है  
 (जीव ३) । २ एक पुष्करिणी (दीव) ।  
 अम्म देखो अव = आम्म (उर २, ६) ।  
 अम्मएव पु [आम्मदेव] एक जैन आचार्य  
 (पव २७६, गा ६०६) ।  
 अम्मगा देखो अम्मया (उवा) ।  
 अम्मच्छ वि [दि] असवद्ध (पड्) ।  
 अम्मह देखो अंनह (श्रीप) ।  
 अम्मडी (अप) स्त्री [अम्वा] माता, मां (हे  
 ४, ४२४) ।  
 अम्मणुअचिय न [दे.] अनुगमन, अनुसरण  
 (दि १, ४६) ।  
 अम्मघाई देखो अवघाई (विपा १, ६) ।  
 अम्मया स्त्री [अम्वा] १ माता, जननी  
 (उवा) । २ पाचवें वासुदेव की माता का  
 नाम (सम १५२) ।  
 अम्महे (शौ) अ हर्ष-सूचक अव्यय (हे ४,  
 २८४) ।  
 अम्मा स्त्री [दि अम्वा] माता, मां (दि १,  
 ५) । °पिड, °पिउ, °पियर, °पीइ पुं व.  
 [°पितृ] मां-त्राप, माता-पिता (वव ३, कप्प,  
 मुर ३, ८३, ठा ३, १, मुर ३, ८८, ७, १७०) ।  
 °पेइय वि [°पैतृक] मां-त्राप-संबन्धी (भग  
 १, ७) ।

अम्माइआ स्त्री [दे] अनुसरण करने वाली  
 स्त्री, पीछे-पीछे जानेवाली स्त्री (दि १, २२) ।  
 अम्मो अ [ ? ] १ आश्चर्य-सूचक  
 अव्यय (हे २, २०८, स्वप्न २६) । २ माता  
 का संबोधन, हे मां (उवा; कुमा) ।  
 अम्मोगइया स्त्री [दे] समुल-गमन, स्वागत  
 करने के लिए सामने जाना, 'राया सयमेव  
 अम्मोगइयाए निग्गमो' (मुख २, १३) ।  
 अम्मोस वि [अमर्ष्य] अक्षय्य, क्षमा के  
 अयोग्य (मुपा ४८७) ।  
 अम्ह स [अस्मत्] हम, निज, खुद (हे २,  
 ६६, १४२) । °केर, °क्षेर, °चय वि  
 [°ीय] अस्मदीय, हमारा (हे २, ६६, मुपा  
 ४६६) ।  
 अम्हत्त वि [दे] प्रमृष्ट, प्रमार्जित (पड्) ।  
 अम्हार } (अप) वि [अस्मदीय] हमारा  
 अम्हारय } (पड्, कुमा) ।  
 अम्हारिच्छ वि [अस्माहत्त] हमारे जैसा  
 (प्रामा) ।  
 अम्हारिस वि [अस्माहश] हमारे जैसा (हे  
 १, १४२, पड्) ।  
 अम्हेचय वि [अस्माक] अस्मदीय, हमारा  
 (कुमा, हे २, १४९) ।  
 अम्हो अ [अहो] आश्चर्य-सूचक अव्यय  
 (पड्) ।  
 अय पुं [अग] १ पहाड़, पर्वत । २ सांप,  
 सर्प । ३ सूर्य, सूरज (आ २३) ।  
 अय पु [अज] १ द्याग, बकरा (विपा १, ४) ।  
 २ पूर्वमाद्रपद नक्षत्र का अधिप्रायक देव (ठा  
 २, ३) । ३ महादेव । ४ विष्णु । ५ राम-  
 चन्द्र । ६ ब्रह्मा । ६ कामदेव (आ २३) । ८  
 महाग्रह-विशेष (ठा ६) । ९ वीजोत्पादक  
 शक्ति से रहित धान्य (पउम ११, २५) ।  
 °करक पु [°करक] एक महाग्रह का नाम  
 (ठा २, ३) । °वाल पु [°पाल] आभीर (आ  
 २३) ।  
 अय पु [अय] १ गमन, गति (विसे २७६३,  
 आ २३) । २ लाभ, प्राप्ति । ३ अनुभव  
 (विसे) । ४ न पुण्य (ठा १०) । ५ भाग्य,  
 नसीब (आ २३) ।  
 अय न [अक] १ दुःख । २ पाप (आ २३) ।

अय न [अयस्] लोहा, लोह (श्लो ६२) ।  
 आगर पु [आगर] ? लोहे की धान (निबू ५) । २ नाहे का बारखाना (ठा ८) ।  
 कन, कस्तं पु [कान्त] लोह-सुम्बक (ध्रुवम) । °कडिल्ल न [दि. °कडिल्ल] कडाह (श्लोघ) । कुंडी स्त्री [कुण्डी] लोहे का भाजन-विशेष (विपा १, ६) । °फोट्टय पु [कोष्टक] लोहे का कुट्टन लोहे का गोला, 'फोट्ट अयकोट्टमा व्य वट्ट' (उवा) । °गोलय पु [गोलक] लोहे का गोला (श्रा १९) । °दव्वी स्त्री [दर्वी] लोहे की बडछी या कर-छुल, जिसमें दाल, कढी आदि हिलाया जाता है (दे २, ७) । °पाय न [पात्र] लोहे का भाजन । °सलागा स्त्री [शलागा] लोहे की सलाई (उप २११ टी) ।  
 अय सक [अय्] ? गमन करना, जाना । २ प्राप्त करना । ३ जानना । वहु अयमाण (नम ६३) ।  
 अदछ सक [दृप्] ? सोचना । २ जोतना, चास करना । ३ रेखा करना । अयदइ (हे ४, १८७) ।  
 अयछिर वि [कर्पिन] कर्पणशील, नाचने-वाला (कुमा) ।  
 अयड पु [अक्रण्ड] ? अनुचित समय (महा) । २ अक्रम्मात्, हठात् (पट्टम ५, १६४; से ४४, गडड) । ३ क्रिवि अनवारित, अतकित (पात्र) ।  
 अयत वहु [आयन्] आना हुआ, प्रवेश करता हुआ (ध्रुवम) ।  
 अयन्निय वि [अयन्नित्त] अनादरणीय (उत्त २०, ४२) ।  
 अयपिर वि [अजल्पित्त] नहीं बोलनेवाला, मौनी (पि २६६, ५६६) ।  
 अयपुल पुं [अयपुल] गोरालक का एक शिष्य (भग ८, ५) ।  
 अयंस पुं [आदर्श] दर्पण, कांच । °सुह पुं [°मुख] ? इस नाम का एक द्वीप । २ द्वीप-विशेष का निवासी (इक) ।  
 अयसधि वि [इदसधि] उपयुक्त कार्य को यथासमय करनेवाला (आचा) ।  
 अयकरय पुं [अयकरक] एक महाग्रह (सुज २०) ।

अयक } पु [दे] दातर, अनुग (दे १, ६) ।  
 अयग }  
 अयगर पु [अजगर] अजगर, मोटा नोप (परह १, १, पट्टम ६३, ५८) ।  
 अयड पु [दे अयट] कूप, कुंआ (दे १, १८) ।  
 अयण न [अतन] मत्त होना, निरन्तर होना (विमे ३५७८) ।  
 अयण न [अयन] ? गमन । २ प्राप्ति, लान (विसे ८३) । ३ ज्ञान, निर्णय (विसे ८३) । ४ गृह, मन्दिर, 'अडियायण' (स ८२५) । ५ वि प्रापक, प्राप्त करनेवाला (विसे ६६०) । ६ पुन वर्ष का आधा भाग जिसमें नूयें दक्षिण में उत्तर में या उत्तर में दक्षिण में जाता है (ठा २, ४) ।  
 'एके अग्रणे दिग्रहा, वीए रग्रणीओ  
 होति दीहायो ।  
 विरहाग्रणो अदव्वो, इय दुवे च्चेम वट्टति'  
 (गा ८४६) ।  
 अयण न [अदन] ? नक्षण । २ सुख, भोजन (स १३० उर ८, ७) ।  
 अयणु वि [अज] अज्ञान, मूर्ख (नुर ३, १६६) ।  
 अयणु वि [अतनु] न्यून, मोटा महान (सण) ।  
 अयतचिअ वि [दि] पृष्ठ, उपचित (दे १, २७) ।  
 अयर वि [अजर] बुढावन्वारहित 'अयरानर ठाण' (पडि; उव) ।  
 अयर पुन [अतर] ? नगर, समुद्र (व २८) । २ समय का मान-विशेष, नागरापम (सा २१, २५, वण ४३) । ३ वि तरने के अशक्य (वृह १) । ४ असमर्थ, अशक्य (निबू १) । ५ ग्लान, बीमार (वृह १) ।  
 अयरामर वि [अजरामर] ? जरा और मरण ने रहित (नव २) । २ न मुक्ति, मोक्ष (पट्टम ८, १२७) ।  
 अयल देखो अचल = अचल (पात्र, गडड, उप पृ १०५, अत ३, पट्टम ८५, ४; सम ८८, कप्य, सम १६) ।  
 अयला देखो अचला (पट्टम १२०, १५६) ।  
 अयस देखो अजस (गडड, प्राप् २३, १५३, गा १७८) ।

अयमि वि [अयगग्गिन] अज्ञानी, यशो-रहित, कौन मूल्य (गडट) ।  
 अयसि } स्त्री [अतमी] धान्य-विशेष, धानमी,  
 अयमी } कौनी (भग, ठा ७, गण्या १, ५) ।  
 अया स्त्री [अजा] ? बकरी । २ भाषा, अविद्या । ३ प्रकृति, बुद्धरत (ह ३, ३२; पट्ट) । °किवागिज्जपुं [°कृपाणीय] न्याय-विशेष; जैसे बकरी के गने पर अदरायी छुरी पटती है उस माफिर अदराया किमी कार्य का होना (आता) । °पाल पुं [°पाल] धार्मीर, बकरी नयनेवाला (स २६०) । °वय पु [°वज] बकरी का बाडा (भा १६, ३) ।  
 अयागर देखो अत्र-आगर (ठा ८) ।  
 अयाण न [अज्ञान] ज्ञान का अभाव (सन ६३) ।  
 अयाण वि [अज्ञ, अज्ञान] अज्ञान, अज्ञानी, मूर्ख (श्लो ७४, पट्टम २२, ८३, गा २७५; दे ७, ८३) ।  
 अयागअ वि [अज्ञायक] जपर देखो (पात्र; नवि) ।  
 अयाणत देखो अजाणत (श्लो ११) ।  
 अयाणमाण देखो अजाणमाण (नव ३६) ।  
 अयाणिय देखो अजाणिय (उप ७२८ टी) ।  
 अयाणुय देखो अजाणुय (नुर ३, १६८, सुपा ५४३) ।  
 अयार पु [अकार] 'अ अतर (विमे ४७८) ।  
 अयाल पु [अकाल] अयोग्य समय, अनुचित काल (पट्टम २२, ८५) ।  
 अयालि पु [दि] दुर्दिन, मेधाच्छन्न दिवस (दे १, १३) ।  
 अयालिय वि [अकालिक] धान्मिक, अकारणोत्पन्न; 'पडड पडड एयन्त हत्थत्ते अयानिया विज्जू' (रभा) ।  
 अचि देखो अइ = अचि (हे २, २१८) ।  
 अयुजरेवइ स्त्री [दि] अचिर-युवति, नवोडा, दुस्तिन (पह) ।  
 अयोमय देखो अओ-मय (अंत १६) ।  
 अय्यावत्त (शौ) पु [आर्यावर्त] भारत, हिन्दुस्तान (कुमा) ।  
 अय्युण (मा) देखो अज्जुण (हे ४, २६२) ।  
 अर पुं [अर] ? बूट, पहिमे के बीचका काष्ठ । २ अठारहवाँ जिनदेव और सातवाँ

-चक्रवर्ती राजा, 'सुमिणे अरं महरिहं पामंड  
जणणी अरो तमहा' (आव २, नम ५३, उत  
१८) । ३ समय का एक परिमाण, कालचक्र  
का वास्तव्य हिसा । (ती २१) ।

अर पुं [°अर] १ किरण । गा ३४३; से १,  
१७) । २ हस्त, हाथ (से १, २८) । ३  
शुक्क, चुंगी (से १, २८) ।

अरइ जी [अरति] अर्यं, मन्ना (आचा २,  
१३, १) ।

अरइ स्त्री [अरति] १ वेचनी । (भग, आचा,  
उत्त २) । २ कम्म न [°कर्मन्] अरति का हेतुभूत  
कर्मविशेष (ठा ६) । ३ परिमह, °परीसह पु  
[°परिपह, °परोपह] अरति को महन  
करना (पच ८) । ४ मोहणिज्ज न [°मोह-  
नीय] अरति का उत्पादक कर्म-विशेष (कम्म  
१) । ५ रइ स्त्री [°रति] मुख दुःख (ठा १) ।

°अरग देखो तरग (से २, २६) ।

अरजर पुन [अरजर] घडा, जल-घट (ठा  
४, ४) ।

°अरक्ख देओ घरक्ख (से ६, ४४) ।

अरक्खरी स्त्री [अरक्खरी] नगरी-विशेष  
(आक) ।

अरग देखो अर (पएह २, ४, भग ३, ५) ।

अरज्जिय वि [अरहित] निरन्त, रसतत,  
'अरज्जियामितावा' (सूत्र १, ५, १) ।

अरहु पुं [अरहु] वृक्ष-विशेष (उप १०३१  
टी) ।

अरण न [अरण] हिसा (उव) ।

अरणि पुं [अरणि] १ वृक्ष-विशेष । २ इम  
-वृक्ष की लकड़ी, जिसको घिसने पर अग्नि  
जल्दी पैदा होती है (आवम, राणा १, १८) ।

अरणि पुत्री [दे] १ रास्ता, मार्ग । २ पक्ति,  
कतार । (पड) ।

अरणिा स्त्री [अरणिा] वनस्पति-विशेष  
(आचा) ।

अरणेट्टय पु [दे अरणेटक] पत्थरों के  
टुकड़ों में मिली हुई सफेद मिट्टी (जी ३) ।

अरण वि [आरण्य] जंगल में रहने वाला  
(सूत्र १, १, १, १६) ।

अरण न [अरण्य] वन, जंगल (हे १,  
६६) । २ वडिसग न [°वतंसक] देवविमान

विशेष (सम ३६) । ३ साण पुं [°श्वन्]  
अंगली कुत्ता (कुमा) ।

अरणय वि [आरण्यक] जंगली, जंगल-वासी  
(अग्नि ५२) ।

अरच वि [अरक्त] राग-रहित; नीराग (आचा) ।  
अरज देखो अरण्य (कण्, उव) ।

अरवाग पुं [दे] एक अनार्य देश, अरव देश  
(पव २७४) ।

अरमतिया स्त्री [अरमन्तिका] अरमणता,  
कार्य में अतत्परता (उवा) ।

अरय देखो अर (उत्त १०८) ।

अरय वि [अरजस्] १ रजोगुण-रहित (पउम  
६, १४६) । २ एक महाग्रह का नाम (ठा  
२, ३) । ३ त्रि धूलोरहित, निर्मल (कण्) ।  
४ न पाचवें देव लोक का एक प्रतर (ठा  
६) । ५ रजोगुण का अभाव, 'अरो य अरय  
पत्तो पत्तो गडमणुतर' (उत्त १८) ।

अरय वि [अरत] अनामक, नि स्पृह (आचा) ।

अरय पुन [अरजस्] एक देवविमान  
(दिवेन्द्र १४१) ।

अरया स्त्री [अरजा] कुमुद नामक विजय की  
राजधानी (जं ४) ।

अरयगि पु [अरतिन] परिमाण विशेष, खुली  
अगुलीवाला हाथ (ठा ४, ४) ।

अरर न [अरर] १ युद्ध । २ ढकना । ३ कुरी  
स्त्री [°कुरी] नगरी-विशेष (धम्म ६ टी) ।

अररि पुन [अररि] किवाड, द्वार (प्रामा) ।  
अरल न [दे] १ चोरी, कीट-विशेष । २  
मशक, मच्छर (दे १, ९३) ।

अरलाया स्त्री [दे] चोरी, कीट-विशेष (दे १,  
२६) ।

अरलु देखो अरहु (पउम ४२, ८) ।

अरविट्ट न [अरविन्द] कमल, पद्म (पएह  
२, ४) ।

अरविंदर वि [दे] दीर्घ, लम्बा (दे १, ४५) ।  
अरस पु [अरस] रसरहित, नीरस (राणा  
१, ५) ।

अरस पुं [अरस] व्याधि-विशेष, कवासीर  
(आ २२) ।

अरस न [अरस] तप-विशेष, निर्विकृति तप  
(संनोष ५८) ।

अरह वि [अर्हत्] १ पूजा के योग्य, पूज्य  
(पड, हे २, १११) । २ पु. जिनदेव,  
तीर्थंकर (सम्म ६७) । ३ मित्त पु [°मित्त]  
एक व्यापारी का नाम (गच्छ २) ।

अरह देखो अरिह = अर्ह । अरहह (प्राक  
२८) ।

अरह वि [अरहम्] १ प्रकट । २ जिससे  
कुछ भी न छिपा हो । ३ पु जिनदेव, सर्वज्ञ  
(ठा ४, १, ६) ।

अरह वि [अरथ] परिग्रहरहित (भग) ।

अरहत वट्ट [अर्हत्] १ पूजा के योग्य,  
पूज्य (पड, हे २, १११, भग ८, ५) । २  
पु जिन भगवान्, तीर्थंकरदेव (आचा, ठा  
३, ४) ।

अरहन वि [अरहोन्तर] १ सर्वज्ञ, सब कुछ  
जाननेवाला । २ पु जिन भगवान् (भग २, १) ।

अरहत वि [अरथान्त] १ नि स्पृह, निर्मम ।  
२ पु जिनदेव (भग) ।

अरहत वट्ट [अरहयन्] १ अपने स्वभाव  
को नहीं छोड़नेवाला । २ पु जिनेश्वर देव  
(भग) ।

अरहट्ट पु [अरघट्ट] अरहट्ट, रहट्ट, पानी का  
चरवा, पानी निकालने का यन्त्र विशेष (गा  
४६०, प्रासू ५५), 'अभिओ कालमणत अर-  
हट्टवडिच्च जलमज्जे' (जीवा १) ।

अरहट्टिय वि [अरघट्टिक] अरहट्ट चलाने-  
वाला (कुप्र ५४) ।

अरहणा स्त्री [अर्हणा] १ पूजा । २ योग्यता  
(प्राक २८) ।

अरहणय पु [अरहणक] एक व्यापारी का  
नाम (राणा १, ८) ।

अरहन्न पु [अर्हन्न] एक जैन मुनि का नाम  
(सुख २, ६) ।

अराइ पु [आरति] रिपु, दुश्मन (कुमा) ।

अराइ स्त्री [आरति] दिन, दिवस (कुमा) ।

अरागि वि [आरागिन्] रागरहित, नीतराग  
(पउम ११७, ४१) ।

अरि देखो अरे (तंडु ५०, ५२ टी) ।

अरि पु [अरि] दुश्मन, रिपु (पउम ७३, १६) ।  
°अव्वग्ग पु [°पडवर्ग] छ आन्तरिक

शत्रु—वाम, लोभ, लोम, मोह, मद मान्यं  
(मू० १, १, ४) । °दमण वि [°दमन] १ रिपु  
विनाशक । २ पु शुकुवकु वंश के एक राजा का  
नाम (पद्य ५, ७) । ३ एक जैन मुनि जो भग  
वान् अजितनाथ के पूर्वजन्म के शुभ थे (पद्य  
२०, ५) । °दमणी स्त्री [°दमनी] विद्या विशेष  
(पद्य ७, १८५) । °विद्धस्त्री स्त्री [°विध्वं-  
स्त्रिणी] रिपु का नारा वग्नेवाग्नी एक विद्या  
(पद्य ७, १४०) । °सतास पु [°सत्राम]  
राक्षसव्यसने उपपन्न नशूका का एक राजा  
(पद्य ५, २६५) । °हत वि [°हन्त्] १  
रिपु-विनाशक । २ पु जिनदेव (भावम) ।

अरिअल्लि पुत्री [°दि] व्याघ्र, शेर (दि १, २४) ।

अरिजय पु [अरिजय] १ भगवान् रूपभदेव  
का एक पुत्र । २ न नगर-विशेष (पद्य ५,  
१०६, इक्षु, मुर ५, १०३) ।

अरिष्ट पु [अरिष्ट] १ वृज-विशेष (परण १) ।  
२ पनरुहें तीर्थकर का एक गणधर (सम  
१५२) । ३ पुन एक देवविमान (देन्द्र  
१३३) । ४ न गोत्र-विशेष जो मारुद्व्य गोत्र  
की शाखा है (ठा ७) । ५ रत्न की एक जाति  
(उत्त ३४, ४; मुपा ६) । ६ फल-विशेष,  
रोडा (परण १७, ज्ञ ३४, ८) । ७ अग्निष्ट-  
सूत्रक उपान (आन्) । °णमि, °नेमि पु  
[°नेमि] वर्तमान काल के वाईसवें जिनदेव  
(सम १७, अंत ५, कल्प, पडि) ।

अरिष्ठा स्त्री [अरिष्ठा] वच्छ नामक विजय  
की राजधानी (ठा २, ३) ।

अरिच न [अरिच] पतवार, कन्हूर, नाव की  
पीछे का डाढ, जिसेसे नाव दाहिने-बाये घुमायी  
जाती है (धर्मवि १३२) ।

अरिहिो अ [अरिहिो] पादपूरक अन्वय  
(हि २, २१७) ।

अरिस देवो अरस (शाया १, १३) ।

अरिसल्ल } वि [अर्गस्वत्] ववासीर  
अरिसिल्ल } रोगवाला (पात्र, विपा १, ७) ।

अरिह वि [अर्ह] १ योग्य, लायक (सुपा  
२६६, प्राप्र) । २ पु जिनदेव (भौप) ।

अरिह सक [अर्ह] १ योग्य होना । २ पूजा  
के योग्य होना । ३ पूजा करना । अरिहइ  
(महा) । अरिहेति (भग) ।

अरिह देवो अरह = अर्हंत (हि २, १११,  
पट्) । °दत्त, °दिणग पु [°दत्त] जैन  
मुनि-विशेष का नाम (कण्) ।

अरिहणा देवो अरहणा (प्राठ २८) ।

अरिहंत देवो अरहंत = अर्हंत (हि २, १११,  
पट्, शाया १, १) । °चइय न [°चैत्य]  
१ जिन मन्दिर (उवा, धार) । °सामण न  
[°शासन] १ जैन प्राणम-अन्वय । २ जिन-  
प्राजा । (परण २, ५) ।

°अरु देवो तरु (मे २, १६, ५, ८५) ।

अरु वि [अरुज्] रोग-रहित (तंदु ४६) ।

अरु देवो अरुज (तंदु ४६) ।

अरुज न [दि. अरुज्] वण, धार, 'धर्मं  
इहा कुत्यह' (उट ३) ।

अरुनुद वि [अरुनुद] १ मर्म-वेपक । २  
मर्म-स्पर्श, 'इय तदारुनुदवायावाणोहि विधि  
यन्मावि' (सम्मत १५८) ।

अरुण पु [अरुण] १ मूर्ध, मूरज (मे २,  
६) । २ मूर्ध का मारपी । ३ सय्याराग,  
सन्ध्या की लानी (से ८, ७) । ४ द्वीप-  
विशेष । ५ समुद्र-विशेष, 'गनूण हीर मन्थो,  
अरुणो दीवो तमो उदही' (दीप) । ६ एक  
ग्रह-देवता का नाम (ठा २, ३, पद्य  
७८) । ७ गजावनी-वृक्ष का अविष्टाना  
देव (ठा २, ३, पद्य ६६) । ८ देव-विशेष  
(अदि) । ९ रक्त, रंग, लानी । (गठ) ।  
१० न. विमान विशेष (सम १५) । ११  
वि. रक्त, लाल (गठ) । °वत्त न

[°कान्त] देवविमान-विशेष (उवा) ।  
[°कील] न [°कील] देवविमान-विशेष  
(उवा) । °गंगा स्त्री [°गङ्गा] महाराष्ट्र-  
देश की एक नदी (ती २८) । °गज न  
[°गज] देवविमान-विशेष (उवा) । °उमय  
न [°ध्वज] एक देवविमान का नाम  
(उवा) । °व्यभ, °व्यह न [°प्रभ] इव  
नाम का एक देवविमान (उवा) । °भद्र  
पुं [°भद्र] एक देवता का नाम (सुव १६) ।  
°भूय न [°भूत] एक देवविमान (उवा) ।  
°महामद्र पुं [°महाभद्र] देव-विशेष (सुव  
१६) । °महावर पु [°महावर] १ द्वीप-  
विशेष । २ समुद्र-विशेष (इक्षु) । °वर्हिसय  
न [°वितंसक] एक देवविमान (उवा) ।

°वर पुं [°वर] १ द्वीप-विशेष । २ समुद्र-  
विशेष (सुव १६) । °धरोमास पुं  
[°धरायभाम] १ द्वीप विशेष । २ समुद्र-  
विशेष (सुव १६) । °मिष्ट न [°शिष्ट]  
एक देवविमान (उवा) । °म न [°म]  
देवविमान-विशेष (उवा) ।

अरुग न [दि] ममन, पद्म (दि १, ८) ।

अरुग पुं न [अरुग] १ एक देवविमान ।  
(देन्द्र १३१) । °व्यम पुं [°प्रम] १  
मनुवंशपर नामक नारायण का एक भावाव-  
पंत । २ उम पंत का निगादी देव ।  
(ठा ८, २, पद्य २२६) । °म पुं [°म]  
शुभ पुद्गल-विशेष (सुव २०) ।

अरुगिम पुं न [अरुगिम] मानो, रक्ता,  
'पाणिपट्टमार्गममणोय' (मुपा ५८) ।

अरुगिय वि [अरुगिय] रक्त, लाल (उट) ।

अरुगुत्तरवर्हिसग न [अरुगुत्तरायतंभरु]  
इस नाम का एक देवविमान (सम १४) ।

अरुगोट पु [अरुगोट] समुद्र-विशेष (सुव  
१६) ।

अरुगोदय पुं [अरुगोदक] समुद्र विशेष  
(भग) ।

अरुगोवयात्र पु [अरुगोपपात] प्रत्य-विशेष  
का नाम (अदि) ।

अरुय वि [अरुय] वण, धार (सुम १,  
३, ३) ।

अरुय वि [अरुज्] निरोगी, रोगरहित  
(सम १, धर्जि २१) ।

अरुह देवो अरह = अर्हंत (हि २, १११, पट्,  
(नवि) ।

अरुह वि [अरुह] १ जन्मरहित । २ पुं मुक्त  
प्रात्मा (पद्य २७५, नग १, १) । ३ जिन-  
देव (पद्य ५, १२०) ।

अरुह देवो अरिह = अर्हंत । अरुहमि (अग्नि  
१०४) । अरुहमाण (पट्) ।

अरुह वि [अर्ह] योग्य (उत्तर ८४) ।

अरुहंत देवो अरहंत = अर्हंत (हि २, १११;  
पट्) ।

अरुहंत वि [अरोहन्] १ नहीं उगता  
हुमा, जन्म नहीं लेता हुमा (भग १, १) ।

अरुव वि [अरुव] स्वरहित, अमूर्त-  
(पद्य ७५, २६) ।

अरुचि वि [अरुचिन्] ऊपर देखो (ठा ९, ३, आचा, परण १) ।  
 अरे अ [अरे] १-२ सभापण और रति-  
 कनह का सूचक अर्थ (हे २, २०१, पङ्) ।  
 अरे अ [अरे] इन अर्थों का सूचक अर्थ—  
 १ आक्षेप । २ विस्मय, आश्चर्य । ३ परिहास,  
 ठट्ठा (सक्ति ३८, ४७) ।  
 अरोअ अक [उत् + लस्] उन्नाम पाना,  
 विकसित होना । अरोअइ (हे ४, २०२,  
 कुमा) ।  
 अरोअअ पुं [अरोचक] रोग-विशेष, अन्न की  
 अरुचि (आ २२) ।  
 अरोइ वि [अरोचिन्] अरुचि वाला, रुचि-  
 रहित, 'अरोइ अत्वे कहिग विलावो' (गोय  
 ७) ।  
 अरोग वि [अरोग] रोगरहित (भग १८,  
 १) । °या स्त्री [°ता] आरोग्य, नीरोगता  
 (उप ७२८ टी) ।  
 अरोगि वि [अरोगिन्] नीरोग, रोगरहित ।  
 °या स्त्री [°ता] आरोग्य, तदुच्यन्ती (महा) ।  
 अरोग्ग } देखो आरोग्य = आरोग्य (आचा २,  
 आरोय } १५, २) ।  
 आरोस वि [अरोप] १ गुस्ता-रहित । २-३  
 पुं एक म्लेच्छ देश और उसमें रहनेवाली  
 म्लेच्छ जाति (परह १, १) ।  
 अल न [अल] १ विच्छेद के पुच्छ का अन्न  
 भाग,  
 'अलमेव विच्छुआण, मुहमेव  
 अहीण तह य मदस्स ।  
 दिट्ठि-विय पिसुणारणं,  
 मव्व सव्वस्स भय-जणायं'  
 (प्रासू १९) ।  
 २ अलादेवी का एक सिंहासन (शाया २) ।  
 ३ वि समर्थ (आचा) । °पट्ट न [°पट्ट]  
 विच्छेद की पूंछ जैसे आकारवाला एक रत्न  
 (विपा १, ६) ।  
 °अल देखो तल (गा ७५, मे १, ७८) ।  
 अलं अ [अलम्] १ पर्याप्त, पूर्ण, 'अलमा-  
 रादं जणतीए' (सुर १३, २१) । २ प्रतिषेध,  
 निवारण, बस (उप २, ७) ।  
 अलं अ [अलम्] अलङ्कार, भूषण (सुअग्नि  
 २०२) ।

अलकर सक [अलं + कृ] भूपित करना,  
 विराजित करना । अलंकरेति (पि ५०६) ।  
 वक्र अलकरत (माल १४३) । सक्र. अल-  
 करिअ (पि ५८१) । प्रयो, कर्म अलंकरा-  
 वीयड (स ६४) ।  
 अलकरण न [अलङ्करण] १ आभूषण, अलं-  
 कार (रयण ७४, भवि) । २ वि शोभा-  
 कारक, 'मञ्जमलोअस्स अलकरणे मुलोअणि'  
 (विक्र १४) ।  
 अलकरिय वि [अलकृत] सुशोभित, विभूषित,  
 'कि नयरमलकरिय जम्ममहेण तए महापुरिम'  
 (सुपा ५८४, सुर ४, ११८) ।  
 अलकार पु [अलङ्कार] १ शास्त्र-विशेष,  
 साहित्यशास्त्र (सिदि ५५, सिक्का २) । २  
 पुन एक देवविमान (देवेन्द्र १३५) ।  
 अलकार पु [अलङ्कार] १ भूषण, गहना  
 (श्रीप. राय) । २ भूषण, शोभा (ठा ४, ४) ।  
 °महा स्त्री [°सभा] भूषण-गृह, शृङ्गार-घर  
 (डक) ।  
 अलंकारिय पुं [अलंकारिक] नापित, नाई,  
 हजाम (शाया १, १३) । °कम्म न  
 [°कर्मन्] हजामत, और कर्म (शाया १,  
 १३) । °सहा स्त्री [°सभा] हजामत बनाने  
 का स्थान (शाया १, १३) ।  
 अलकिय वि [अलकृत] १ विभूषित, सुशो-  
 भित (कप्प, महा) । २ न संगीत का एक  
 गुण (जीव ३) ।  
 अलकुण देखो अलकर । अलकुणति (रयण  
 ५२) ।  
 अलघ वि [अलङ्घ्य] १ उल्लघन करने  
 के अयोग्य (सुर १, ४१) । २ उल्लघन  
 करने के अशक्य (उप ५६७ टी) ।  
 अलघणिय } वि [अलङ्घनीय] ऊपर देखो  
 अलघणीय } (महा; सुपा ६०१, पि ६६,  
 नाट) ।  
 अल्प पु [दे] कुक्कुट, मुर्गा (दे १, १३) ।  
 अलघुसा स्त्री [अलघुसा] १ एक दिक्कुमारी  
 देवी का नाम । (ठा ८) । २ गुल्म-विशेष ।  
 (पात्र) ।  
 अलभि स्त्री [अलाभ] अप्राप्ति (श्रीघ २३,  
 ना) ।  
 अलका स्त्री [अलका] नगरी-विशेष; पहले

प्रतिवासुदेव की राजधानी (पद्म २०,  
 २०१) । देखो अलया ।  
 अलकस्व पु [अलक्ष] १ इस नाम का एक  
 राजा, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा  
 लेकर मुक्ति पाई थी (अत १८) । २ न.  
 'अतगट्ठसा' सुत्र के एक अर्थयन का नाम ।  
 (अत १८) ।  
 अलकस्व वि [अलक्ष्य] लक्ष्य में न आ सके  
 ऐसा (सुर ३, १३६, महा) ।  
 अलकस्वमाण वि [अलक्ष्यमाण] जो पहि-  
 चाना न जा सकता हो, गुप्त (उप ५६३ टी) ।  
 अलक्खिय वि [अलक्षित] १ अज्ञात,  
 अपरिचित । (से १३, ४५) । २ न पहचाना  
 हुआ । (सुर ४, १४०) ।  
 अलग देखो अलय = अलक (महा) ।  
 अलगा देखो अलया (अत १) ।  
 अलग्ग न [दे] कलक देना, दोष का झूठा  
 आरोप (दे १, ११) ।  
 अलचपुर न [अचलपुर] नगर-विशेष  
 (कुमा) ।  
 अलज्ज वि [अलज्ज] निर्लज्ज, वेशरम (परह  
 १, ३) ।  
 अलज्जि वि [अलज्जालु] ऊपर देखो (गा  
 ६०, ४४५, ६६१, महा) ।  
 अलट्टपल्लट्ट न [दे] पार्श्व का परिवर्तन  
 (दे १, ४८) ।  
 अलत्त पु [अलत्त] आलता, बियाँ हाथ-  
 पैर को लाल करने के लिए जो रंग लगाती  
 हैं वह (अनु ५) ।  
 अलत्तय पु [अलत्तक] १ ऊपर देखो ।  
 (सुपा ४०६) । २ वि आलता से रंगा हुआ  
 (अनु) ।  
 °अलघोय देखो कलघोय (से ६, ४६) ।  
 अलमजुल वि [दे] आलसी, सुस्त (दे १,  
 ४६) ।  
 अलमथु वि [अलमस्तु] १ समर्थ । २  
 निषेधक, निवारक । (ठा ४, २) ।  
 अलमल पु [दे] दुर्दान्त वैल (दे १, २५) ।  
 अलमलवसह पु [दे] उन्मत्त वैल (दे १,  
 २५) ।  
 अलय न [दे] विद्रुम, प्रवाल (दे १, १६,  
 भवि) ।

अलय पु [अलक] १ विच्छू का काष्ठ ।  
(विपा १, ६) । २ केश, घुंघराले बाल ।  
(पाश्र्, स ६६) ।  
अलया स्त्री [अलका] कुबेर की नगरी (पाश्र्,  
राया १ ८) । देवी अलका ।  
अलय वि [अल्प] मीनी, नहीं बोलनेवाला  
(नृप २, ६) ।  
अलयलवमह पु [दे] घूतं बल (पङ्) ।  
अलम वि [अलम] १ शालसी, मुन्त (प्राप्त  
७) । २ मन्द, धीमा (पाश्र्) । ३ पु क्षुद्र शीट-  
विशेष, सू-नाग, वर्षाक्रान्तु में साँप मरीचा  
नाल का जा लम्बा जन्तु उत्पन्न होता है  
वह (जी १५, पुष्प २६५) ।  
अलम वि [दे] १ मधुर आवाजवाला, 'स  
श्रननं कलमजुल' (पाश्र्) । २ कुमुम्भ रंग से  
रंगा हुआ । ३ न मोम (दे १, ५२) ।  
अलस देवो कलम (ने १, ६, ११, ४०, गा  
३६६) ।  
अलसग पु [अलसक] १ विनूचिका रोग  
अलमय (उवा) । २ ध्ययु, सूजन (आचा) ।  
अलसाइअ वि [अलमायित] जिनसे शालसी  
की तरह आचरण किया हो, मन्द (गा ३५२) ।  
अलमाय शक [अलमाय] शालसी होना,  
शालसी की तरह काम करना । श्रनसामड  
(पि ५५६) । बहु अलसायत, अलसाय-  
माण (मे १४, १, उप पृ ३१५, गच्छ १) ।  
अलसी देवो अयसी (आचा, पङ्, हे २,  
११) ।  
अला स्त्री [अला] १ इस नाम की एक देवी  
(डा ६) । २ एक इन्द्राणी का नाम (राया  
२) । ३ वहिसग न [वतंसक] अलादेवी  
का मन्त्र (राया २) ।  
अला देखो कला (गा ६५७) ।  
अलाउ न [अलाउ] तुम्बी फल, लोकी, तुम्बा  
(श्रीप प्राप्त १५१) ।  
अलाऊ } स्त्री [अलायू] तुम्बी-सता  
अलायू } (कुमा, पङ्) ।  
अलाय न [अलाय] १ चन्दुक, जलता हुआ  
काष्ठ (दे १, १०७, श्लेष २१भा) । २ शङ्खार,  
कोयला (स ३, ३४) ।  
अलायणी स्त्री [अलायणी] वीणा-विशेष  
(प्राक ३७) ।

अलायु देवो अलाउ (ज ३) ।  
अलायू देवो अलाऊ (पि १४१, २०१) ।  
अलाह पु [अलाह] नुस्मान, नैस्मान, 'बन-  
हरमाणाय पुराणो होइ मुनाहा क्याबलाहो  
वा' (मुपा ८४६) ।  
अलाहि देवो अल (उव ७२० टी, हे २, १८६,  
राया १, १, गा १२७) ।  
अलि पु [अलि] अमर (कुमा) । ० उल न  
[कुल] अमरों का नमूना (हे ४, २५३) ।  
विस्रय न [विक्रय] अमर का गुणान्व  
(पाश्र्) ।  
अलि पुत्री [अलि] वृद्धि ररशि (विचार  
१०६) ।  
अलिअल्ली स्त्री [दे] १ बन्दूरी । २ व्याज,  
शेर (दे १, ५६) ।  
अलिआ स्त्री [दे] मन्त्री (दे १, १६) ।  
अलिआर न [दे] दूध (दे १, २३) ।  
अलिजर न [अलिजर] १ घडा, कुम्भ (डा  
४, २) । २ कुड, पाय-विशेष (दे १, ३७) ।  
अलिजरअ पु [अलिजरक] १ घडा (उवा) ।  
रगने का कुडा, रंग-पाय (पाश्र्) ।  
अलिड न [अलिड] पाय-विशेष, एक प्रकार  
का जलपाय (श्रीप ४७६) ।  
अलिडग पुं [अलिडक] १ द्वार का प्रकार  
(स ४७६) । २ घर के बाहर के दरवाजे का  
चौक । ३ बाहर का अग्र भाग (वृह २, राज) ।  
अलिद्य पुन [अलिडक] धान्य खाने का  
पाय-विशेष (शृणु १५१) ।  
अलिण पु [दे] वृद्धि, विच्छू (दे १, ११) ।  
अलिणी स्त्री [अलिनी] अमरी (कुमा) ।  
अलित्त न [अरित्र] नीका खेवने का डंड,  
चप्पू (आचा २, ३१) ।  
अलिय न [अलिक] कपाल (पाश्र्) ।  
अलिय न [अलीक] १ मृपावाद, अक्षय  
वचन (पाश्र्) । २ वि भूला गोटा, 'श्रनिग्र-  
पोत्सालाव'—(पाश्र्) । ३ निष्कन्, निरखं  
(परह १, २) । ० वाड वि [वाडिन्] मृपा-  
वादी (पचम ११, २७, महा) ।  
अलिल्ल सक [कथय] कहना, बोलना ।  
अलिहह (पिग) ।  
अलिल्लह न [दे] १ छन्द विशेष का नाम ।  
२ वि. अमरयोजक, नियमरहित (पिग) ।

अलिन्त्या स्त्री [अलिन्त्या] इस नाम का एक  
छन्द (पिग) ।  
अलीग } देवो अलिप = अलीक (नुर ४,  
अलीय } २२३, मुपा ३००, महा) ।  
अलीयह स्त्री [अलिपधू] अमरी (कुमा) ।  
अलीमअ त्री पु [दे] शाप-वृक्ष, माग का  
पत्त (दे १, २७) ।  
अलुम्बि वि [अलुम्बिन्] कोमल (नग  
११, ८) ।  
अलेमि वि [अलेमिन्] १ लेश्यारहित ।  
२ पु मुक्त आत्मा (डा ३, ४) ।  
अलोग पु [अलोक] जोब-पुङ्गव आदि रहित  
शालाश (नग) ।  
अलोगिय वि [अलवणिक] नृगुरहित नमक-  
दूध, 'नय श्रनेणिय सिन कोट चट्टेड'  
(महा) ।  
अलोय देवो अलोग (अम १) ।  
अलोभ पुं [अलोभ] १ लोभ का अभाव,  
सतोप । २ वि नोनरहित, सतोपी (नग,  
उव) ।  
अलोल वि [अलोल] अमरुट, तिनॉन (दम  
१०, पि ८५) ।  
अलोह देवो अलोभ (कम्प) ।  
अल्ल न [दे] दिन, दिवस (दे १, ५) ।  
अल्ल देवो अह (हे १, ८२) ।  
अल्ल शक [नम्] नमना, नीचे नुतना ।  
श्रोमन्ति (ने ६, ४३) ।  
अल्लई स्त्री [आर्द्रकी] लता-विशेष, आर्द्रक-  
लता (परण १७) ।  
अल्लग देवो अल्लय = आर्द्रक (अम २) ।  
अल्लय नक [उन् + श्लिप्] ऊंचा फेंकना ।  
अल्लयद (हे ४, १४४) ।  
अल्लय न [दे] १ जलार्द्र, गोला पत्ता । २  
केयूर. नृपाय-विशेष (दे १, ५४) ।  
अल्लयियअ वि [अलिम्प] ऊंचा फेंका हुआ  
(कुमा) ।  
अल्लय न [आर्द्रक] आदी, अदरक (जी ६) ।  
अल्लय न [अत्रिक] आदी, हल्दी और कचूर  
(जी ६) ।  
अल्लय वि [दे] परिचित ज्ञान (दे १, १२) ।  
अल्लय पुं [अल्लक] इन नाम का एक  
विख्यात जैन मुनि शौर ग्रन्थकार, उद्घोषन-

सूरि का उपाध्याय भवम्या का नाम (सुर १६, २३६) ।

अल्लल्ल पुं [दे] मयूर, मोर (दे १, १३) ।

अल्लविय [अप] देतो आलत्त = आनपित (नवि) ।

अल्ला जी [दे] माता, मां (दे १, ५) ।

अल्लि } देतो अल्लो । अल्लिइ (पह) ।

अल्लिअ } अल्लिअइ (दे १, ५८, हे ४, ५४) ।

वह अल्लिअत (मे १२, ७१, पञ्च १२, ५६) ।

अल्लिअ सक [उप + लृप्] ममीप में जाना । अल्लिअइ (हे ४, १३६) । वह अल्लिअत (कुमा) । प्रयो अल्लियावेइ (पि ४८२, ५०१) ।

अल्लिअ वि [आद्रित] गीला किया हुआ (गा ४४०) ।

अल्लियावण न [आलायन] आलीन करना चिट्ट करना, मिलान (भग ८, ८) ।

अल्लिल्ल पु [दे] ममा (पह) ।

अल्लिय नक [अर्पय] अर्पण करना ।

अल्लिवइ (हे ४, ३६, नवि, पि १६६, ८८५) ।

अल्ली } सक [आ + ली] १ आना । २

अल्लीअ } प्रवेश करना । ३ जोडना । ४

आश्रय करना । ५ आनिगत करना । ६ अक

सगत होना । अल्लीअइ (हे ४, ५४) । नूका

अल्लीनी (आमा) हेऊ अल्लीई (वह ६) ।

अल्लीण वि [आलीन] १ आच्छिट्ट । २

आगत । ३ प्रविष्ट । ४ सगत । ५ योजित ।

६ थोडा लोन (हे ४, ५४) । ७ आश्रित

(कम्प) । ८ तल्लीन, तत्पर (वव १०) ।

अल्लेस वि [अलेठय] लेखारहित (कम्म ४, ५०) ।

अल्लोग देतो अलोग (द्रव्य १६) ।

अल्लाद पु [आह्लाद] खुशी, प्रमोद, आनन्द (प्राप्र) ।

अव अ [अप] इन अर्थों का सूचक अव्यय—

१ विपरीतता, उन्टापन, 'अवकय, अवगुय' ।

२ वापसी, पीछेपन, 'अवकमड' । ३ बुरापन,

खराबपन, 'अवमग्ग, अवसद' । ४ न्यूनता,

कमी; 'अवहद' । ५ रहितपन, वियोग; 'अव-

बाण' । ६ बाहरपन, 'अवमण' ।

अव अ [अव] निम्नलिखित अर्थों का सूचक अव्यय— १ निम्नता, 'अवइण' । २ पीछेपन, 'अवकुली' । ३ तिरस्कार अनादर 'अवगणंत' । ४ खराबी, बुराई, 'अवगुण' । ५ गमन । ६ अनुभव (राज) । ७ हानि, ह्रास, 'अवहाम' । ८ अभाव, 'अवलद्धि' । ९ मर्यादा (विने ८२) । १० निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है, 'अवगुट्ट, अवगल्ल' ।

अव नक [अव्] १ रक्षण करना, 'अवतु

मुण्णिणो य पयकमन' (खण ६) । २ जाना,

गमन करना । ३ इच्छा करना । ४ जानना ।

५ प्रवेश करना । ६ मुनना । ७ मांगना,

याचना । ८ करना, बनाना । ९ चाहना । १०

प्राप्त करना । ११ आलिङ्गन । १२ मारना,

हिंसा करना । १३ जनाना । १४ अक प्रीति

करना । १५ वृत्त होना । १६ प्रकाशना ।

१७ बटना । अव (आ २३, विने २०२०) ।

अव पु [अव] शत्रु, आवाज (आ २३) ।

अवअकर सक [दृश्] देखना । अवअक्खइ

(हे ४, १८१, कुमा) ।

अवअक्खिअ न [दे] निवापित मुत्त, मुंढाया

हुआ मुंहे (दे १, ४०) ।

अवअच्छ न [दे] कक्षा-वन्न (दे १, २६) ।

अवअच्छ अक [ह्लाद] आनन्द पाना, खुश

होना । अवअच्छइ (हे ४, १२२) ।

अवअच्छ सक [ह्लादय] खुश करना ।

अवअच्छइ (हे ४, १२२) ।

अवअच्छिअ [दे] देतो अवअक्खिअ (दे

१, ४०) ।

अवअच्छिअ वि [ह्लादित] १ हृष्ट,

आह्लाद प्राप्त । २ खुश किया हुआ, हर्षित

(कुमा) ।

अवअज्ज सक [दृश्] देखना । अवअज्जइ

(पह) ।

अवअणिअ वि [दे] असंपटित, असयुक्त (दे

१, ४३) ।

अवअण्ण पु [दे] ज्वल, मृगल (दे १, २६) ।

अवअत्त वि [अपवृत्त] स्वलित (मे १०,

१८) ।

अवआस सक [दृश्] देखना । अवआसइ

(हे ४, १८१, कुमा) ।

अवइ वि [अत्रतिन्] अत्रशून्य, अविरत,

असयत (वह १) ।

अवइण वि [अवतीणे] १ उत्तम हुआ, नीचे

आया हुआ । २ जन्मा हुआ (कम्पू, पञ्च ७६,

२८) ।

अवइद (शो) वि [अवचित] एकत्रित, इकट्ठा

किया हुआ (अभि ११७) ।

अवइद (शो) वि [अपकृत] १ जिमका अहित

किया गया हो वह । २ न अपकार, अहित

(चार ४०) ।

अवइन्न देतो अवइण्ण (सुर ३, १२२) ।

अवउज्ज मक [अवकुज्ज] नीचे नमना ।

संहु अवउज्जिय (आचा २, १ ७) ।

अवउज्ज सक [अप + उज्जम्] परित्याग

करना । छोड देना । महु. अवउज्जिकऊण

(वह ३) ।

अवउज्ज<sup>०</sup> देखो अववह ।

अवउडग } देखो अवओडग (गाया १, २;

अवउडय } अनु) ।

अवउठण न [अवगुण्ठन्] १ ढकना । २

मुंह ढकने का वन्न, घूँघट (चार ७०) ।

अवउड वि [अवगूड] आलिगित, 'सभावह-

अवऊढो एववाहिरोव्व विज्जुलापडिभिन्नो'

(हे २, ६, न ४६६) ।

अवऊसण न [अपवमन] तपधर्या-विरोप

(पचा १६) ।

अवऊसण न [अपजोपण] ऊपर देतो (पचा

१६) ।

अवऊहण न [अवगूहन] आलिङ्गन (गा

३३४, ५५९, वजा ७४) ।

अवएड पुं [अवएज] तापिका-हस्त, पाय-

विशेष (गाया १, १ टी—पत्र ४३) ।

अवएस पु [अपदेश] बहाना, छल (पाम) ।

अवओडग न [अचकोटक] गले को मरोडना,

कृकाटिका को नीचे ले जाना (विपा १, २) ।

अवघण न [अवघन] १ हाथ और सिर को

पृष्ठ भाग से बांधना (परह १, २) । २ वि-

रस्ती ने गला और हाथ को मोडकर पृष्ठ भाग

के साथ जिसको बाधा जाय वह (विपा १,

२) ।

अवग पुं [अपाङ्ग] नेत्र का प्रान्त भाग (सुर

३, १२४, ११, ६१) ।



अवग पु [दे] कटाक्ष (दे १, १५) ।  
 अवगु } वि [दे अपावृत] नहीं ढका  
 अवंगुय } हुआ, खुला (श्रीप, परह २, ४) ।  
 अवगुण सक [दे] खोलना । अवगुणैज्जा  
 (प्राचा ०, २, २, ४) ।  
 अवचिअ वि [अवाञ्छित] अघोमुख, अवाड-  
 मुख (वज्जा १०) ।  
 अवचिअ वि [अवञ्छित] नहीं ठगा हुआ  
 (वज्जा १०) ।  
 अवक वि [अवन्ध्य] नफ्त, अचूक (मुपा  
 ३२५) । °पवाय न [°प्रवाद] ग्यारहवा  
 पूर्व, जैन ग्रन्थांश-विशेष (सम २६) ।  
 अवतर वि [अघान्तर] भीतरी, बीच का  
 (श्रावम) ।  
 अवति पु [अवन्ति] भगवान् आदिनाय का  
 एक पुत्र (ती १४) ।  
 अवति } स्त्री [अवन्ति, °न्ती] १ मालव देश ।  
 अवती } २ मालव देश की राजधानी, जो  
 श्राजकल राजपूताना मे 'उज्जैन' नाम से प्रसिद्ध  
 है (महा, मुपा ३६६, श्रावम) । °गगा स्त्री  
 [°गङ्गा] श्राजीविक मत में प्रसिद्ध काल-  
 विशेष (मग २४, १) । °वड्ढण पु [°वर्धन]  
 इस नाम का एक राजा (श्राव ४) । °सुकु-  
 माल पु [°सुकुमाल] एक त्रेष्ठि-पुत्र, जो  
 श्रायंमुहस्ति श्राचार्य के पाम दीक्षा लेकर  
 देव-लोक के नलिनीगुप्त विमान में उत्पन्न  
 हुआ है (पडि) । °सेण पु [°पेण] एक राजा  
 (श्राक) ।  
 अवटिम वि [अवन्द्य] बन्दन करने के  
 श्रयोय, प्रणाम के श्राग्य (इमचू १) ।  
 अवकख नक [अव + काङ्क्ष] १ चाहना ।  
 २ देखना । अवकखइ (भग) । वक अव-  
 कल्पमाण (साया १, ६) ।  
 अवकत देखो अवकत, 'कुमरोवि सत्यराश्री  
 उट्टेता सणियमवकतो' (महा) ।  
 अवकप्प सक [अव + कल्प] कल्पना  
 करना, मान लेना । अवकप्पति (सूत्र १, ३,  
 ३, ३) ।  
 अवक्य वि [अपकृत] १ जिसका अकार  
 किया गया हो वह (उव) । २ अकार, अहित  
 (मुपा ६४१) ।  
 अवकर सक [अप + कृ] अहित करना ।  
 अवकरेंति (सूत्र १, ४, १, २३) ।

अवकरिस पुं [अपकर्प] अकार, हान,  
 हानि (सम ६०) ।  
 अवकलुसिय वि [अपकलुपित] मनिन  
 (गडड) ।  
 अवकस सक [अव + कृप] त्याग करना ।  
 सक अवकसित्ता (चट १४) ।  
 अवकारि वि [अपकारिन्] अहित करने  
 वाला (पठम ६, ८५) ।  
 अवकिण वि [अवकीर्ण] परित्यक्त (दे १,  
 १३०) ।  
 अवकिणण } पु [अपकीर्णक] करवएह  
 अवकिणण } नामक एक जैन महर्षि का पूर्व  
 नाम (महा) ।  
 अवकिन्ति स्त्री [अपकीर्त्ति] अयश (दे १,  
 ६०) ।  
 अवकिन्दि स्त्री [अपकृत्ति] अपकार, अहित  
 (प्राक १२) ।  
 अवकीरण न [अवकरण] छोडना, त्याग,  
 उन्मग (श्राव ५) ।  
 अवकीरिअ वि [दे अवकीर्ण] विरहित,  
 विरक्त (दे १, ३८) ।  
 अवकीरियव्य वि [अवकरितव्य] त्याज्य,  
 छोडने लायक (परह १, ५) ।  
 अवकूजिय न [अवकूजित] हाथ को ऊँचा-  
 नीचा करना (निचू १७) ।  
 अवकेशि पु [अवकेशिन्] फल-नन्ध वन-  
 स्पति (उर २, ८) ।  
 अवकोडक देखो अवओडग (परह १, १) ।  
 अवकंत वि [अपक्रान्त] १ पीछे हटा हुआ,  
 वापस लौटा हुआ (मुपा २६०, उप १३४  
 टी, महा) । २ निकृष्ट, जघन्य (ठा ६) ।  
 अवकत पु [अपक्रान्त] प्रथम नरक भूमि का  
 ग्यारहवाँ नरकेन्द्रक—नरक-न्याय विरोध  
 (देवेंद्र ५) ।  
 अवकन्ति स्त्री [अपक्रान्ति] १ अपसरण ।  
 २ निर्गमन (साया १, ८) ।  
 अवकति स्त्री [अपक्रान्ति] गमन, गति  
 (श्रावा) ।  
 अवकम अक [अप + कम्] १ पीछे  
 हटना । २ बाहर निकलना । अवकमइ (महा,  
 कप्प) । वक अवकममाण (विपा १, ६) ।

नक अवकमइत्ता, अवकम्म (कप्प, वव  
 १) ।  
 अवकम सक [अव + कम्] जाना । अवक-  
 मइ (भग) । नक अवकमित्ता (नग) ।  
 अवकमण न [अपक्रमण] १ बाहर निकलना  
 (ठा ५, २) । २ पलायन, भागना, 'निग्गमण-  
 मवक्कमण निम्भरणं पलायण च एगट्ठा' (वव  
 १०) । ३ पीछे हटना (साया १, १) ।  
 अवकमण न [अपक्रमण] अवतरण, 'उत्त-  
 नावक्कमण' (नग ६, ३३) ।  
 अवक्य पु [अवक्य] भाटा, नाटि (वृह १) ।  
 अवक्य वि [अपकृत] जिमका अहित किया  
 गया हो वह (चंड) ।  
 अवकरस पु [दे] दाव, मय (दे १, ४६,  
 पाम) ।  
 अवकरिस } पु [अपकर्प] हानि, अचय  
 अवकास } (विसे १७६६, मग १२, ५) ।  
 अवकास पु [अवकर्प] ऊपर देखो (मग १२,  
 ५) ।  
 अवकास पु [अप्रकाश] अन्धकार, अंधेरा  
 (मग १२, ५) ।  
 अवकोस पु [अवकोश] मान, अहकार (सम  
 ७१) ।  
 अवकड सक [दृश] देखना । अवकवइ  
 (पड) । अवकवए (भवि) । वक अव-  
 कवन (कुमा) ।  
 अवकरव पु [अवस्मन्ड] १ शिविर, छावनी,  
 मैन्य का पडाव । २ नगर का रियु-मैन्य द्वारा  
 वेष्टन, घेरा (हि २, ४, न ४१२) ।  
 अवकरर पु [अवस्कर] पुरोप, विष्ठा (प्राक  
 २१) ।  
 अवक्खारण न [अपचारण] १ निर्मत्तना,  
 कठोर बचन । २ सहानुभूति का अभाव (परह  
 १, २) ।  
 अवक्खेव पु [अवक्षेप] विघ्न, बाधा (विपा  
 १, ६) ।  
 अवक्खेवण न [अवक्षेपण] १ बाधा, अन्त-  
 राय । २ क्रिया-विरोध, नीचे जाना । (श्रावम,  
 विसे ०४६२) ।  
 अवखेर सक [दे] १ खिन्न करना । २ तिर-  
 स्कार करना । अवखेरइ (भवि) । वक अव-  
 खेरत (भवि) ।

अवग पुन [दे. अवक] जल मे होने वाली वनस्पति-विशेष (सूत्र २, ३, १८)।  
 अवगड स्त्री [अपगति] १ खराब गति । २ गोपनीय स्थान (मुपा ३४५)।  
 अवगंड न [अवगण्ड] १ सुवर्ण । २ पानी का फेन (सूत्र १, ६)।  
 अवगंतव्य देखो अवगम = अवगम् ।  
 अवगच्छ नक [अव + गम्] जानना । अवगच्छर (महा) । अवगच्छे (स १५०)।  
 अवगच्छ्य अक [अप + गम्] दूर होना, निवृत्त जाना । अवगच्छइ (महा)।  
 अवगण } मक [अव + गणय्] अनादर  
 अवगण्ण } करना, तिरस्कारना । वक्तु अव-  
 गणत (श्रा २७)। सक्र अवगण्णिय  
 (श्रा १०५)।  
 अवगणणा स्त्री [अवगणना] अवज्ञा, अनादर  
 (दे १, २७)।  
 अवगणिय } वि [अवगणित] अवज्ञात,  
 अवगण्णिय } निर्मूकन (दे, जीव ?)।  
 अवगद् वि [दे] विन्तीर्ण, विनाश (दे १,  
 ३०)।  
 अवगन्न देखो अवगण । अवगन्नइ (भवि)।  
 सक्र अवगन्निधि (भवि)।  
 अवगन्त्रिय देखो अवगण्णिय (मुपा ४२६,  
 भवि)।  
 अवगम पुं [अपगम] १ अचरण (मुपा  
 ३८०)। २ विनाश (स १५३, विने ११८२)।  
 अवगम सक [अव + गम्] १ जानना । २  
 निर्णय करना । सक्र अवगमिन्तु (साधं  
 ६३)। क्र अवगतत्र्य (स ५२६)।  
 अवगम पुं [अवगम] १ ज्ञान । २ निर्णय,  
 निश्चय (विने १८०)।  
 अवगमण न [अवगमन] ऊपर देखो (स  
 ६७०, विसे १८६, ४०१)।  
 अवगमिअ } वि [अवगत] १ ज्ञान, विदित  
 अवगय } (मुपा २१८)। २ निश्चित, अव-  
 वारित (दे ३, २३, स १४०)।  
 अवगय वि [अपगत] गुजरा हुआ, विलुप्त  
 (शाया १, १, दम १०, १६)।  
 अवगर सक [अप + कृ] अपकार करना,  
 अहित करना । अवगरेइ (स ६३६)।

अवगरिस देखो अवकरिस विसे (१५८३)।  
 अवगल वि [दे] आक्रान्त (पड्)।  
 अवगल् वि [अवग्लान] बीमार (ठा २, ४)।  
 अवगहण न [अवग्रहण] निश्चय, अवधारण  
 (पव २७३)।  
 अवगाढ देखो ओगाढ (ठा १, भग, स १७२)।  
 अवगाहु वि [अवगाहित] अवगाहन करने  
 वाला (विने २८२०)।  
 अवगार पुं [अपकार] प्रपकार, अहित-करण  
 (नुर २, ४३)।  
 अवगारय वि [अपकारक] अपकार-कारक  
 (न ६६०)।  
 अवगारि वि [अपकारिन्] ऊपर देखो (स  
 ६६०)।  
 अवगास पुं [अवकाश] १ फुरसत (महा)।  
 २ जगह, स्थान (भावम)। ३ अवस्थान, अव-  
 स्थिति (ठा ४, ३)।  
 अवगाह मक [अव + गाह्] अवगाहन  
 करना । अवगाहइ (सए)।  
 अवगाह पुं [अवगाह] १ अवगाहन । २  
 अवकाश (उत्त २८)।  
 अवगाहण न [अवगाहन] अवगाहन, 'तित्वा-  
 वगाहणत्वं आगतव्यं तए तत्य' (मुपा ५६३)।  
 अवगाहणा देवा ओगाहणा (ठा ४, ३, विने  
 २०८८)।  
 अवगिचण न [दे अववेचन] पृथकरण (उप  
 पृ ६६)।  
 अवगिउमक देखो ओगिउमक । सक्र अव-  
 गिउमिय (कप्प)।  
 अवगीय वि [अवगीत] निन्दित (उप पृ  
 १८१)।  
 अवगुठण देखो अवउठण (दे १, ६)।  
 अवगुठिय वि [अवगुण्ठन] आच्छादित  
 (महा)।  
 अवगुण पुं [अवगुण] दुष्ट, दोष (हे ४,  
 ३६५)।  
 अवगुण सक [अव + गुणय्] खोलना,  
 उद्घाटन करना । अवगुणेजा (श्रा २, २,  
 २, ४)। अवगुणति (भग १५)।  
 अवगूह वि [अवगूह] १ आलिगित (हे २,  
 १६८)। २ व्याप्त (शाया १, ८)।  
 अवगूह न [दे] व्यनीक, अपराध (दे १, २०)।

अवगूहण न [अवगूहन] आलिगन (सुर १४,  
 २२०, पठम ७४, २४)।  
 अवगूहाविय वि [अवगूहित] आलेपित  
 (स ६६६)।  
 अवग्ग वि [अव्यक्त] १ अस्पष्ट । २ पु  
 अगीतार्थ, शास्त्रानभिन्न साधु (उप ८७४)।  
 अवग्गह देखो उग्गह (पव ३०)।  
 अवग्गहण न [अवग्रहण] देखो उग्गह (विने  
 १८०)।  
 अवच देखो अवय = अवच (भग)।  
 अवचडय वि [अपचयिक] अपकर्षप्राप्त,  
 हान्यवाला (श्रा ३)।  
 अवचय पु [अपचय] हान्य, अपकर्ष (भग  
 ११, ११, न २८२)।  
 अवचय पु [अवचय] इकट्ठा करना (कुमा)।  
 अवचयण न [अपचयन] ऊपर देखो (दे ३,  
 ५६)।  
 अवचि अक [अप + चि] हीन होना, कम  
 जाना । अवचिउइ (भग)। अवचिउति (भग  
 २५, २)।  
 अवचि } सक [अव + चि] इकट्ठा करना  
 अवचिण } (फूल आदि को वृक्ष से तोड़  
 कर)। अवचिणइ (नाट)। भवि. अवचिणस्त  
 (पि ५३१)। हेइ अवचिणेहु (शौ) (पि  
 ८००)।  
 अवचिय वि [अवचित] हीन, हान्यप्राप्त  
 (विने ८६७)।  
 अवचिय वि [अपचित] इकट्ठा किया हुआ  
 (पाप)।  
 अवचुण्णिय वि [अवचूर्णन] तोड़ा हुआ,  
 चूर-चूर किया हुआ (महा)।  
 अवचुह पु [अवचुह] चूल्हे का पीछला भाग  
 (पिठमा ३४)।  
 अवचूल देखो ओऊल (शाया १, १६, पत्र  
 २१६)।  
 अवच्च वि [अवाच्य] १ बोलने के अयोग्य ।  
 २ बोलने के अशक्य (वमंसं ६६८)।  
 अवच्च न [अपत्य] संतान, वंश (कप्प, भाव  
 १, प्रासु ८२)। व वि [वत्] सतान-  
 वाला (मुपा १०६)।  
 अवच्चिज देखो अवच्चिय (सूत्रनि २०५)।

अवञ्चीय वि [अपत्वीय] सतानीय, सतान-  
सवन्वी (ठा ६) ।  
अवच्छुण्ण न [दे] क्रोध से कहा जाता  
मार्मिक वचन (दे १, ३६) ।  
अवच्छेय पु [अवच्छेद] विभाग, अश (ठा  
३, ३) ।  
अवच्छद वि [अपच्छन्दरक] छन्द के लक्षण  
ने गहित, छन्दोदोष-दुष्ट (पिग) ।  
अवजस पु [अपयशस्] अपकीर्ति (उप पृ  
१८७) ।  
अवजाण सक [अप+जा] १ अपलाप करना,  
'वालस्म मदय वीय ज च कड अवजाणई  
मुजो' (सूत्र १, ४, १, २६) ।  
अवजाय पु [अपजात] पिता की अपेक्षा  
हीन वैभववाला पुत्र (ठा ८, १) ।  
अवजिम्भ पुं [अपजिह्व] दूसरी नरक-  
पृथिवी का आठवां नरकेन्द्र—नरक-स्थान  
विशेष (दिवेन्द्र ६) ।  
अवजीव वि [अपजीव] जीवरहित मृत,  
अचेतन (गडड) ।  
अवजुय वि [अवच्युत] पृथग्भूत, भिन्न  
(वव ७) ।  
अवज्ज न [अवच] १ पाप (परह २, ४) ।  
२ वि निन्दनीय (सूत्र १, १, २) ।  
अवज्जस सक [गम्] जाना, गमन करना ।  
अवज्जसइ (हे ४, १६२) । वक्र अवज्जसत  
(कुमा) ।  
अवज्जा स्त्री [अवजा] अनादर (म ६०४) ।  
अवज्ज्म वि [अवज्ज्य] मारने के अयोग्य  
(राया १, १६) ।  
अवज्ज्म सक [हृत्] देखना (सखि ३६) ।  
अवज्ज्मस न [दे] १ कटी, कमर । २ वि.  
कठिन (दे १, ५६) ।  
अवज्ज्मा स्त्री [अवज्ज्या] १ अयोध्या नगरी  
(इक) । २ विदेह वर्ष की एक नगरी (ठा  
२, ३) ।  
अवज्ज्माण न [अपध्यान] बुरा चिन्तन,  
दुर्व्यान (सुपा ५४६, उप ४६६, सम ५०,  
विने ३०१३) ।  
अवज्ज्माण पुं [अपध्यान] दुर्व्यान, 'चल-  
अवभाण' जिहो अवज्ज्माणो' (आवक  
२८६, पंचा १, २३, सवोष ४५) ।

अवज्ज्माय वि [उ पध्यात] १ दुर्व्यान का  
विषय । २ अवज्ञात, तिरस्कृत (राया १, १४) ।  
अवज्ज्माय (अप) देखो उवज्ज्माय (दे १, ३७) ।  
अवट्ट सक [अप + वृत्] घुमाना, फिराना,  
'अवट्ट अवट्ट ति वाहरते करणहारे रज्जुपरि-  
वत्तणुण्णमु निज्जामणुसु अयडम्मि चैय गिरि-  
सिहरनिवडिय पिव विवन्त जाणवत्त' (स  
३५५) ।  
अवट्ट सक [अप + वृत्] पीछे हटना । अव-  
ट्टइ (प्राक् ७२) ।  
अवट्टा स्त्री [आवर्त्ता] गजमार्ग से वाहर की  
जगह (उप ६६१) ।  
अवट्टम पु [अवट्टम्भ] अवलम्बन, आश्रय  
(पत्तम २६, २७, स ३३१) ।  
अवट्टम पुं [अवट्टम्भ] दृढता, हिम्मत (धर्मवि  
१४०) ।  
अवट्टम देखो अवठम । कर्म अवट्टममिति (म  
७४९) ।  
अवट्टमभण } न [अवट्टम्भन] अवलम्बन,  
अवट्टहण } सहारा (स ७०६ टी, ७४६) ।  
अवट्टव वि [अवट्टव] रोक हुआ (द्रव्य  
२७) ।  
अवट्टव वि [अवट्टव] १ अवलम्बित । २  
आक्रान्त, 'अवट्टव महाविसाएण' (स ५८४) ।  
अवट्टव सक [अव + रत्तम्भ] अवलम्बन  
करना, सहारा लेना । सक अवट्टविअ (विक्र  
६४) ।  
अवट्टाण न [अवस्थान] १ अवस्थिति,  
अवस्था । २ व्यवस्था (वृह ५) ।  
अवट्टिअ वि [अवस्थित] १ अवगाहन करके  
स्थित (सूत्र १, ६, ११) । २ कर्म-बन्ध विशेष,  
प्रथम समय में जितनी कर्म-प्रकृतियों का बन्ध  
हो द्वितीय आदि समयों में भी उतनी ही  
प्रकृतियों का जो बन्ध हो वह (पच ५, १२) ।  
अवट्टिअ वि [अवस्थित] १ स्थिर रहनेवाला  
(भग) । २ नित्य, शाश्वत (ठा ३, ३) । ३ जो  
बढ़ता-घटता न हो (जीव ३) ।  
अवट्टिइ स्त्री [अवस्थिति] अवस्थान (ठा ३,  
४, विस ७५८) ।  
अवठम सक [अव + रत्तम्भ] अवलम्बन  
करना । सक.

'वाएण ममो, सदेण मई, चोत्रेण  
वाहवहुयावि ।  
अवठमिऊण वणुहं वाहेणवि मुन्निया पाणा'  
(वज्जा ४६) ।  
अवठम पुं [दे] ताम्बूल, पान (दे १, ३६) ।  
अवड पु [अवट] कूप, कुआ (गडड) ।  
अवड } पु [दे] १ कूप, कुआ । २ आराम,  
अवडअ } वगीचा (दे १, ५३) ।  
अवडअ पु [दे] १ चञ्चा, घास-फूस का पतना,  
तृण-पुस्य (दे १, २०) ।  
अवडक पुं [अवटंङ्क] प्रसिद्धि, ख्याति, 'जरा-  
कयावडकेण निग्घिरणम्मो राण' (महा) ।  
अवडक्खिअ वि [दे] कूप आदि में गिरकर  
मरा हुआ, जिसने आत्म-हत्या की हो वह (दे  
१, ४७) ।  
अवडाह सक [उत् + क्रुञ्ज] ऊंचे स्वर से  
रदन करना । अवडाहेमि (दे १, ४७) ।  
अवडाहिअ न [दे] १ ऊंचे स्वर से रोदन  
(दे १, ४७) । २ वि. उच्छृणु (पड) ।  
अवडिअ वि [दे] चित्र, परिरान्त (दे १,  
२१) ।  
अवडु पुं [अवट्ट] कृपाटिका, घटी या घाटी,  
कण्ठमण (पात्र) ।  
अवडुअ पु [दे] उद्वेग, उल्लूख (दे १, २६) ।  
अवडुहिअ वि [दे] कूप आदि में गिरा हुआ  
(पड) ।  
अवट्टा स्त्री [दे] कृपाटिका, घटी, गर्दन का  
ऊँचा हिस्सा (भग १५, पत्र ६७६) ।  
अवडड वि [अपार्थ] १ आघा (नुज्ज १०) ।  
२ आघा दिन, 'अवडड पच्चक्काइ' (पडि, भग  
१६, ३) । ३ आघे से कम (भग ७, १, नव  
४१) । ४ 'खेत्त न [जेत्र] १ नक्षत्र-विशेष  
(चद १०) । २ मूर्त-विशेष (ठा ६) ।  
अवण पुं [दे] १ पानी का प्रवाह । २ घर  
का फलहक (दे १, ५५) ।  
अवण न [अवन] १ गमन । २ अनुभव  
(एदि; विस ८३) ।  
अवणण देखो अवणणण (पिड ४७३) ।  
अवणणव वि [अवनण] १ संबद्ध, जोड़ा हुआ  
(सुर २, ७) । २ आच्छादित (भग) ।  
अवणम सक [अव + नम्] नीचे नमना ।  
वक्र अवणमत (राय) ।

अवणमिय वि [अवनत] अवनत (सुपा ४२६) ।  
 अवणमिय वि [अवनमित] नीचे किया हुआ, 'नमाया हुआ (सुग् २, ४१) ।  
 अवणय वि [अवनत] नमा हुआ (दस ५) ।  
 अवणय पु [अपनय] १ अपनय, हटाना (ठा ८) । २ निन्दा (पव १४०, विसे १४०३ टी) ।  
 अवणयण न [अपनयन] हटाना, दूर करना (सुपा ११, स ४८३, उप ४९६) ।  
 अवणाम पु [अवनाम] ऊर्ध्व गमन, ऊंचा जाना 'तुनाए एणामावणामव्व' (धम्मस २४२) ।  
 अवणि स्त्री [अवनि] पृथिवी, भूमि (उप ३३६ टी) ।  
 अवणित देखो अवणी = अ + नी ।  
 अवणित्ठ पुं [अवनीन्द्र] राजा, भूप (भवि) ।  
 अवणिय देखो अवणीय, 'तं कुरानु चित्तिनि-  
 वसणमवणियनीसदोममल' (विसे १३८) ।  
 अवणी देखो अवणि (सुपा ३१०) । 'सर  
 पु [अवर] राजा, भूमिपति (भवि) ।  
 अवणी नक [अप + नी] दूर करना, हटाना ।  
 अवणेइ, अवणेमि (महा) । वक्क अवणित,  
 अवणेत (निच्च १, सुर ३, ८) । क्वक्क  
 अवणेज्जत (उप १४६ टी) । क्क अवणेअ  
 (द्र ३७) ।  
 अवणीय वि [अपनीत] दूर किया हुआ  
 (सुपा ५४) ।  
 अवणीयधयण न [अपनीतवचन] निन्दा-  
 वचन (आत्ता २, ४, १, १) ।  
 अवणेत देखो अवणी = अ + नी ।  
 अवणोय पु [अपनोड] अपनयन, हटाना  
 (विसे ६८२) ।  
 अवणोयण न [अपनोडन] अपनयन, दूरी  
 करण (स ६२१) ।  
 अवण्य वि [अवर्ण] १ वर्णरहित, रूपरहित  
 (भग) । २ पु निन्दा (पचव ४) । ३ अपकीर्ति  
 (श्लो १८४ मा) । ४ वि [वन] निन्दक,  
 'तस्मि अवणणव वाले महामोहं पकुव्वइ' (सम  
 ५१) । ५ वाय पु [वाड] निन्दा (द्र २६) ।  
 अवण्य न [दे] अवज्ञा, निरादर (दे १,  
 १७) ।  
 अवण्या स्त्री [अवज्ञा] निरादर, तिरस्कार  
 (श्रीप) ।

अवण्हअ पुं [अपहव] अपलाप (पड्) ।  
 अवण्हवण न [अपहवण] अपलाप (आत्ता) ।  
 अवण्हण न [अवस्नान] साबुन आदि से  
 स्नान करना (गाया १, १३, विपा १, १) ।  
 अवतस देखो अवत्स = अवतन (कुमा) ।  
 अवतस पु [अवतस] मेरुपर्वत (सुत्त ९) ।  
 अवतसिय वि [अवतसित] विभूषित  
 (कुमा) ।  
 अवतट्ट वि [अवतट्ट] तट्टक, छिन्ना हुआ  
 (सूत्र १, ५, २) ।  
 अवतट्टि देखो अवत्टि = अवतट्टि (सूत्र  
 १, ७) ।  
 अवतारण न [अवतारण] १ उतारना । २  
 योजना करना (विसे ६४०) ।  
 अवतासण न [अवत्रासन] डराना (पव ७३  
 टी) ।  
 अवतित्थ न [अपतीर्थ] कुलित घाट, खराब  
 जिनारा (सुपा १५) ।  
 अवत्त वि [अव्यक्त] १ अस्पष्ट (विसे) । २  
 कम उमर वाला (वृह १) । ३ अमस्कृत (गच्छ  
 १) । ४ पु देखो अवग्ग (निच्च २) ।  
 अवत्त वि [अवात] पवनरहित (गच्छ १) ।  
 अवत्त वि [अवात्त] प्राप्त, लब्ध ।  
 अवत्त न [अवत्त] आसन विशेष (निच्च १) ।  
 अवत्तय वि [दे] विमत्सुल, अव्यवस्थित (दे  
 १, ३४) ।  
 अवत्तव्व वि [अवत्तव्व] १ वचन से कहने  
 के अशक्य, अनिर्वचनीय । २ सप्तभगी का  
 चतुर्थ भग,  
 'अत्यतरमूएहि अ नियएहि दोहि समममाईहि ।  
 वयणवित्सेमाईअ दव्वमव्वतयं पडइ' (सम्म  
 ३६) ।  
 अवत्तिय न [अव्यक्तिक] १ एक जैनाभास  
 मत, निह्वप्रचानित एक मत । २ वि इस  
 मत का अनुयायी (ठा ७) ।  
 अवत्थतर न [अवस्थान्तर] जुदी दशा, मित्र  
 अवस्था (सुर ३, २०६) ।  
 अवत्थय वि [अपार्थक] १ निरर्थक, व्यर्थ ।  
 २ असम्बद्ध अर्थवाला (सूत्र वगैरह) (विसे) ।  
 अवत्थय्य वि [अवत्थय्य] अवलम्बन-प्राप्त,  
 जिसको सहारा मिला हो वह (गाया १, १८) ।  
 अवत्थय्य वि [अपार्थक] निरर्थक (विसे ६६६  
 टी) ।

अवत्थरा स्त्री [दे] पाद-प्रहार, लात मारना  
 (दे १, २२) ।  
 अवत्था स्त्री [अवत्था] दशा, अवस्थिति (ठा  
 ८, कुमा) ।  
 अवत्थाण न [अवस्थान] अवस्थिति (ठा ४,  
 १, स ६२७, महा, सुर १, २) ।  
 अवत्थाव सक् [अव + स्थापय्] १ स्थिर  
 करना, ठहराना । २ व्यवस्थित करना । हेक्क,  
 अवत्थाविट्टु, अवत्थावइट्टु (श्री) (पि  
 ५७३, नाट) ।  
 अवत्थाविट्टु (श्री) वि [अवस्थापित]  
 अवस्थित किया हुआ (नाट) ।  
 अवत्थिय देखो अवत्थिय (महा, स २७४) ।  
 अवत्थिय वि [अवस्तृत] फैलाया हुआ,  
 प्रसारित (गाया १, ८) ।  
 अवत्थु न [अवस्तु] १ अभाव, असत्त्व (भवि,  
 आचम) । २ वि निरर्थक, निष्फल (पगह १,  
 २) ।  
 अवत्थम देखो अवत्थम । सकु अवत्थमिय  
 (चेइय ४८१) ।  
 अवत्थग देखो अवत्थग (सूत्र २, २, ५) ।  
 अवत्थल वि [अपदल] १ नि सार, सार-  
 रहित । २ कच्चा, अपक्व (ठा ४, ४) ।  
 अवत्थण न [अवत्थण] दम्भन, गरम लोहे  
 के कोश आदि में चर्म (फोडे आदि) पर  
 दागना (गाया १, ४) ।  
 अवत्थग न [अवत्थान] शुद्ध कर्म (ती १५) ।  
 अवत्थय वि [अवत्थय] १ पवित्र, निर्मल,  
 'दिणयरकरावदाय मत्त पेहित्तु चक्खुणा सम्म'  
 (सुपा ४९१) । २ श्वेत, सफेद (पगह १,  
 ४, पात्र) ।  
 अवत्थार न [अपत्थार] १ छोटी छिडकी ।  
 २ गुप्त द्वार (उप ६६१) ।  
 अवत्थाल सक [अव + दल्य्] खोलना ।  
 अवत्थालेइ (श्रीप) । संक्क अवत्थालेत्ता (श्रीप) ।  
 अवत्थालिय वि [अवत्थालित] विकसित, विजृ-  
 म्भित, 'अवत्थालियपुडरीयनयणे' (श्रीप, पगह  
 १, ४, उवा) ।  
 अवत्थिसा स्त्री [अपत्थिक] भ्रान्त दिशा  
 (स ६२६) ।  
 अवत्थेस देखो अवत्थेस (अभि ७६) ।

अवहार } देवो अवहार (गाथा १, २,  
अवहार } प्राह) ।

अवहाहणा क्री देवो अवदहण (विपा १,  
१) ।

अवदुस न [दे] उल्लवल आदि घर का  
सामान्य उपकरण, गुजराती में जिसको 'राच-  
रचिनु' कहते हैं (दे १, ३०) ।

अवदुस पु [अपध्वस] विनाग (डा ८, ४) ।

अवधमि वि [अपध्वसिन] विनागकारक  
(उत्त ४, ७) ।

अवधार सक [अव + धारय्] निश्चय  
करना । कृ अवधारियन्व (पत्रा ३) ।

अवधारण न [अवधारण] निश्चय, निर्णय  
(श्रा ३०) ।

अवधारणा क्री [अवधारणा] दीर्घकाल तक  
याद रखने की शक्ति (नम्मत्त ११८) ।

अवधारिय वि [अवधारित] निश्चिन, निर्णोत  
(वनु) ।

अवधारियन्व देवो अवधार ।

अवधाव सक [अप + धाव्] पीछे दौड़ना ।  
श्रवधावह (सरण) । वहु अवधावत (स  
२३२) ।

अवधिसा क्री [दे] उपदेहिता, दीमक (पएह  
१, १) ।

अवधीरिय वि [अवधीरित] तिरस्कृत, अप-  
मानित (वृह १, ४) ।

अवधुण } सक [अव + धृ] १ परित्याग  
अवधूण } करना । २ श्रवज्ञा करना । संकृ  
अवधूणिअ, अवधूणिअ (माल २३२, वेणी  
११०) ।

अवधूय वि [अवधूत] १ श्रवज्ञात, तिरस्कृत  
(श्रीघ १८ भा टी) । २ विक्षिप्त (श्राव ४) ।

अवनिहय पु [अपनिद्रक] उजागर, निद्रा  
का अभाव (सुर ६, ८३) ।

अवन्न देवो अवण्ण = श्रवणं (भग, उव  
श्रीघ ३५१) ।

अवन्ना देवो अवण्णा (श्रीघ ३८२ भा सुर  
१६, १३१, सुपा ३७२) ।

अवपगुण } सक [दे] खोलना । श्रवपगुणे  
अवपगुर } (सूत्र १, २, २, १३) । श्रव-  
पंतुरे (वत्त ५, १, १८) ।

अवपक्का क्री [अवपाक्या] तापिका, तनी,  
छोटा तना (गाथा १, १ टी—पत्र ४३) ।

अवपट्ट वि [अवस्पृष्ट] जिसका मजं किया  
गया हो वह,

'जीए नसिक्त्तमणिमदिराड  
निन्नि समिवरावपुट्टाड ।

वियनियवाहजलाड रोयतिव,  
तरणितवियाद्' (सुपा ३) ।

अवपुमिय वि [दे] नघटित, नयुक्त (दे १,  
३६) ।

अवपूर सक [अव + पूरय्] पूर्ण करना ।  
श्रवपूरति (स ७१२) ।

अवपेक्क सक [अवप्र + ईक्ष्] श्रवनोंकन  
करना । श्रवपेक्कह (उत्त ६, १३) ।

अवप्पओग पु [अपप्रयोग] उलटा प्रयोग,  
विरुद्ध श्रौषावयो का मिश्रण (वृह १) ।

अवप्फार पु [अवस्फार] विन्तार, फैलाव,  
'ता किमिण्णा अहोपुरिनियावप्फारपाएण'  
(स २८८) ।

अववव पु [अववन्ध] बन्ध, बन्धन (गउड) ।  
अववद्व वि [अववद्व] बंधा हुआ, नियन्त्रित  
(धर्म ३) ।

अववाण वि [अपवाण] वाणरहित  
(उडड) ।

अववुज्झ सक [अव + वुज्] १ जानना ।  
२ समझना, 'जत्व त मुज्झती राय, पेक्कत्व  
नाववुज्झत्ते' (उत्त १८, १३) । वहु अव-  
वुज्झमाण (स ८५) । सहु अववुज्झेऊण  
(स १६७) ।

अववोह पु [अववोव] १ ज्ञान, बोध (सुपा  
१७) । २ विकास (गउड) । ३ जागरण  
(धर्म २) । ४ स्मरण, याद (श्राचा) ।

अववोहय वि [अववोवक] श्रववोध-कारक,  
'भवियकमलाववोहय, मोहमहातिमिरपसरभर-  
सूर' (काल) ।

अववोहि पु [अववोधि] १ ज्ञान । २ निश्चय,  
निर्णय (प्राहु १, विने ११५४) ।

अवभाम सक [अव + भास्] चमकना,  
प्रकाशित होना ।

अवभास पु [अवभास] प्रकार (सुल ३) ।

अवभास पु [अवभास] ज्ञान (धर्मस  
१३३३) ।

अवभामण वि [अवभासन] प्रकाश-कर्ता  
(सुल १, ४०) ।

अवभामय वि [अवभामक] प्रकाशक  
(विने ३१७, २०००) ।

अपभामि वि [अपभासिन] देदीच्यमान,  
प्रकाशने वाला (गउड) ।

अवभासिय वि [अपभासित] प्रकाशित  
(विने) ।

अपभासिय वि [अपभासित] आकुट,  
श्रमिश्चत (वव १) ।

अवम देवो ओम (श्राचा)

अपमग पुं [अपमार्ग] कुमार्ग, सराव  
रास्ता (कुमा) ।

अवमग पु [अपमार्ग] वृष-विशेष, चिचडा,  
लटजीरा (दे १, ८) ।

अवमच्चु पु [अपमृत्त्यु] अकाल मृत्यु विना  
मौत मरण (दे ६ ३, कुमा) ।

अवमज्ज सक [अव + मृज्] पीछना,  
नाडना, साफ करना । संकृ अवमज्जिऊण  
(स ३४८) ।

अवमणण सक [अव + मन्] तिरस्कार  
करना । श्रवमण्णति (उवर १२०) ।

अवमह पु [अवमह] मर्दन, विनाश (पएह  
१, २) ।

अवमद्ग वि [अवमर्दक] मर्दन करने वाला  
(गाथा १, १६) ।

अवमन्न सक [अव + मन्] श्रवज्ञा करना,  
निरादर करना । श्रवमन्नह (महा) । वहु-  
अवमन्नत (सूत्र १, ३, ४) सकृ अवमन्नि-  
ऊण (महा) ।

अवमन्निय } वि [अवमत] श्रवज्ञान, श्रव-  
अवमय } गणित (सुर १६, १२७, महा,  
उव) ।

अवमाण पु [अपमान] तिरस्कार (सुर १,  
२३५) ।

अवमाण पुन [अवमान] १ श्रवज्ञा, तिर-  
स्कार । २ परिमाण (डा ४, १) ।

अवमाण सक [अव + मानय्] श्रवणना  
करना । श्रवमाणइ (भवि) ।

अवमाणण न [अवमानन] अनादर, श्रवज्ञा  
(पएह १, ५, श्रौष) ।

अवमाणण न [अपमानन] तिरस्कार, अप-  
मान (स १०) ।

अत्रमाणणा स्त्री [अवमानना] श्रवणणा  
(काल) ।  
अवमाणि वि [अवमानिन्] श्रवज्ञा करने  
वाला (भ्रमि ६६) ।  
अवमाणिय वि [अपमानित] तिरस्कृत (सि  
१०, ६६, सुपा १००) ।  
अवमाणिय वि [अवमानित] १ श्रवज्ञात,  
श्रनाहत (सुर २, १५६) । २ अपूरित, 'श्रव-  
माणियदोहला' (भग ११, ११) ।  
अवमार पु [अपस्मार] भयकर रोग विशेष,  
पागलपन (भाचा) ।  
अवमारिण वि [अपस्मारित, 'रिक] अप-  
स्मार रोग वाला (भाचा) ।  
अवमारुय पु [अवमारुत] नीचे चलता पवन  
(गडड) ।  
अवमिच्छु देखो अवमच्छु (प्रारु) ।  
अवमिच वि [दे] जिसको घाव हो गया हो  
वह, ब्रणित (वृह ३) ।  
अवमुक्क वि [अवमुक्त] परित्यक्त (पि ५६६) ।  
अवमेह वि [अपमेघ] मेघ-रहित (गडड) ।  
अवय देखो अपय = अपद (सूत्र १, ८, ११) ।  
अवय न [अवय] कमल, पथ (परण १) ।  
अवय वि [अवय] १ नीचा, अनुच (उत्त  
३) । २ जघन्य, हीन, श्रेष्ठ (नूत्र १, १०) ।  
३ प्रतिकूल (भग १, ६) ।  
अवयस पु [अवतस] १ शिरोभूषण विशेष  
(कुमा; गा १७३) । २ कान का श्रान्भूषण  
(पात्र) ।  
अवयस सक [अवतंसय] भूषित करना ।  
श्रवश्रसभ्रति (पि १४२, ४६०) ।  
अवयक्ख सक [अप + ईक्ष] अपेक्षा करना,  
राह देखना । श्रवयक्खह (शाया १, ६) ।  
वह अवयक्खत, अवयक्खमाण (शाया  
१, ६, भग १०, २) ।  
अवयक्ख सक [अव + ईक्ष] १ देखना ।  
२ पीछे से देखना । वह अवयक्खत (श्रीध  
१८८ भा) ।  
अवयक्खा स्त्री [अपेक्षा] अपेक्षा (शाया १,  
६) ।  
अवयग्ग न [दे] श्रन्त, श्रवसान (भग १,  
१) ।

अवयच्छ सक [अव + गम्] जानना । श्रव-  
यच्छइ (स ११३) । सक. अवयच्छिय  
(स २१०) ।  
अवयच्छ सक [दृश] देखना । श्रवयच्छइ  
(हे ४, १८१) । वह अवयच्छत (कुमा) ।  
अवयच्छिय वि [दृष्ट] देखा हुआ (शाया १,  
८) ।  
अवयच्छिय वि [दे] प्रसारित, 'कु कारपव-  
णपिनुणियमवयच्छियमयगरमहा य' (स  
११३) ।  
अवयज्झ सक [दृश] देखना । श्रवयज्झइ  
(हे ५, १८१) । सक. अवयज्झण (कुमा) ।  
अवयट्ठि स्त्री [अवतट्ठि] तनूकरण, पतला  
करना (भाचा) ।  
अवयट्ठि वि [अवस्थायिन्] श्रवस्थिति करने  
वाला, स्थिर रहने वाला (भाचा) ।  
अवयट्ठि स्त्री [अवकृष्टि] श्राकपेण (भाचा) ।  
अवर्याड्डअ वि [दे] युद्ध में पकड़ा हुआ  
(दे १, ४६) ।  
अवयण न [अवचन] कुलित वचन, दूषित  
भाषा (ठा ६) ।  
अवयर सक [अव + वृ] १ नीचे उतरना ।  
२ जन्म ग्रहण करना । श्रवयरइ (हे १,  
१७२) । वह अवयरत, अवयरमाण  
(पठम ८२, ६३, सुपा १८१) । सक. अव-  
यरिड (प्रासू) ।  
अवयरिअ पु [दे] वियोग, विरह (दे १,  
३६) ।  
अवयरिअ वि [अपवृत्त] १ जिसका अपकार  
किया गया हो वह । २ न. अपकार, श्रहित-  
करण, 'को हेऊ तुह गमणे तुह श्रवयरियं मए  
कि व' (सुपा ४२१) ।  
अवयरिअ वि [अवतीर्ण] १ जन्मा हुआ ।  
२ नीचे उतरा हुआ (सुर ६, १८६) ।  
अवयव पुं [अवयव] १ श्रश, विभाग । २  
श्रनुमान-श्रयोग का वाक्यांश (दसनि १, हे १,  
२४५) ।  
अवयवि वि [अवयविन्] श्रवयव वाला (ठा  
१, विसे २३५०) ।  
अवयाढ देखो ओगाढ (नाट, गडड) ।  
अवयाण न [दे] खीचने की डोरी, लगाम  
(दे १, २४) ।

अवयाय पु [अववाय] अपराध, दोष (उप  
१०३१ टी) ।  
अवयाय वि [अवदात] निर्मल (सिरि  
१०२७) ।  
अवयार पु [अपकार] श्रहित-करण (म  
४३७ कुमा, प्रासू ६) ।  
अवयार पु [अवतार] १ उतरना । २ देहा-  
न्तर-वारण, जन्म-ग्रहण । ३ मनुष्य रूप में  
देवता का प्रकाशित होना; 'श्रज । एव तुम  
देवावयारो विय श्रागईए' (स ४१६, भवि) ।  
४ मगति, योजना (विसे १००८) । ५ प्रवेश  
(विसे १०४३) ।  
अवयार पु [अवतार] ममावेश (पव ८६) ।  
अवयार पु [दे] माघ-पूर्णिमा का एक उत्सव,  
जिसमें इक्ष में दत्तवन आदि किया जाता है  
(दे १, ३२) ।  
अवयारण न [अवतारण] उतारना (सिरि  
१००४) ।  
अवयारय देखो अवगारय (स ६६०) ।  
अवयारि वि [अपकारिन्] अपकार करने  
वाला (स १७६, विवे ७६) ।  
अवयालिय वि [अवचालित] चलायमान  
किया हुआ (स ४२) ।  
अवयास मक [श्लिप्] श्रालिगन करना ।  
श्रवयासइ (हे ४, १६०) । कवक अव-  
यासिज्जमाण (श्रौप) । सक. अवयासिय  
(शाया १, २) ।  
अवयास सक [अव + काश] प्रकट करना ।  
सक. अवयासेऊण (तडु) ।  
अवयास देखो अवगास (गडड, कुमा) ।  
अवयास पु [श्लेष] श्रालिगन (श्रीध २४४  
भा) ।  
अवयासण न [श्लेषण] श्रालिगन (वृह १) ।  
अवयासाविय वि [श्लेषित] श्रालिगन कराया  
हुआ (विपा १, ४) ।  
अवयासिय वि [श्लिष्ट] श्रालिगित (कुमा,  
पात्र) ।  
अवयासिणी स्त्री [दे] नासा-रज्जु, नाक में  
डाली जाती डोर (दे १, ४६) ।  
अवर वि [अपर] श्रन्य, दूसरा, तद्विन्न (श्रा  
२७, महा) । 'हा श्र [था] श्रन्यया (पंचा  
८) ।

अवर स [अपर] १ पिछना काल या देश (महा) । २ पिछने काल या देश में रहा हुआ, पाश्चात्य (सम १०, महा) । ३ पश्चिम दिशा में स्थित, 'अवरद्वाणे' (स ६४६) । ० कक्षा स्त्री [०न्द्धा] १ घातकी-खड के भरतनेत्र की एक राजधानी । २ इन नाम के 'जातवर्म-कथा' सूत्र का एक अन्वयन (शाया १, १६) । ० षह पु [०ह] १ दिन का अन्तिम प्रहर (ठा ४, २) । २ दिन का उत्तरी भाग (आचू १, गा २६२, प्रामू ५४) । ० दाहिण पु [०दक्षिण] १ नैऋत्य कोण । २ वि नैऋत्य कोण में स्थित (पचा २) । ० दाहिणा स्त्री [०दक्षिणा] पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा, नैऋत कोण (वव ७) । ० फाणु स्त्री [०फार्णि] एवी, अड़ी का पिछला भाग (वव ८) । ० राय पु [०रात्र] देखो अवरत्त=अपररात्र (आचा) । ० विदेह पु [०विदेह] महाविदेह नामक वर्ष का पश्चिम भाग (ठा २, ३, पठि) । ० विदेहकूड न [०विदेहकूट] पर्वत-विशेष का शिखर-विशेष (ज ४) । देखो अपर ।

अवर स [अवर] अपर देखो (महा, शाया १, १६, वव ७, पचा २) ।

अवरमुद् वि [अपराह्मुख] १ संमुख । २ तन्पर (पि २६६) ।

अवरच्छ देखो अपरच्छ (परह १, ३) ।

अवरज्ज पु [दे] १ गत दिन । २ आगामी दिन । ३ प्रभाव, सुवह (दे १, ५६) ।

अवरज्ज अक [अप + राज्] १ अपराध करना, गुनाह करना । २ नष्ट होना । अवरज्जइ (महा, उव) । वक अवरज्जंत (राज) ।

अवरत्त पु [अपररात्र, अवररात्र] रात्रि का पिछला भाग (मग, शाया १, १) ।

अवरत्त वि [अपरत्त] १ विरत्त, उदात्त (उव ५ ३०८) । २ नाराज, नागुय (मुद्रा २६७) ।

अवरत्तअ } पु [दे] पश्चात्ताप, अनुताप (दे  
अपरत्तअ } १, ४४, पात्र) ।

अवरदक्षिणा देवो अवर-दाहिणा (पव १०६) ।

अवरद्व न [अपराह्] १ अपराध, गुनाह (सुर २, १२१) । २ वि जिसने अपराध किया हो

वह अपराधी, 'सगडे दाए ममं श्रतेरुत्ति अवरद्वे' (विपा १, ४, न २८) । ३ विना-शित, नष्ट किया हुआ (शाया १, १) ।

अवरद्विग वि [अपराधिक] १ अपराधी, दोषी । २ पुं लूना-स्फोट । ३ सर्पादि-दश (पिठ १४) ।

अवरद्विग } पुंस्त्री [अपराधिक] १ सर्प-  
अवरद्विय } दंश । २ फुनसी, छोटा फोड़ा (श्रीघ ३४१, पिठ) ।

अवरा स्त्री [अपरा] विदेहवर्ष की एक नगरी (ठा २, ३) ।

अवरा स्त्री [अपरा] पश्चिम दिशा (पव १०६) ।  
अवराइया देखो अपराइया (पचम २५, १, ज ४, ठा २, ३) ।

अवराइस देखो अण्णाइस (पड्, हे ४, ४३३) ।

अवराजिय देखो अपराइय (इक) ।

अवराजिया देखो अपराइया (इक) ।

अवराह पु [अपराध] १ अपराध, गुनाह (भाव १) । २ अनिष्ट, दुर्गाह, 'अवराहेनु गुणेनु य निमित्तमेत्त परो होई' (प्रामू १०२) ।

अवराह पु [दे] कटी, कमर (दे १, २८) ।

अवराहिय न [अपराधित] १ अपराध, गुनाह, 'जपइ जणो महल्ल कन्त्तवि अवरहिय जाय' (पचम ६४, २५, स ३२०) । २ अप-कार, अनिष्ट, अहित, 'सिरि चडिआ क्षति प्फलई, पुगु डालड मोडति ।

तोवि महदुम सच्छाहं, अवरहिय न करति' (ह ४, ६४५) ।

अवराहिल्ल वि [अपराधिन] अपराधी (प्राकू ५०) ।

अवराहुत्त वि [अपराभिसुत्त] १ पराह-मुत्त । २ पश्चिम दिशा की तरफ मुंह किया हुआ (भाव ४) ।

अवरि } अ [उपरि] ऊपर (दे १, २६; प्राप्र) ।  
अरि } अ [उपरि] ऊपर (दे १, २६; प्राप्र) ।

अवरिक वि [दे] अत्रतरहित, अनवतर (दे १, २०) ।

अवरिगलिअ वि [अपरिगलिन] पूर्ण, भरपूर (मे ११, ८८) ।

अवरिज्ज वि [दे] अद्वितीय, असाधारण (दे १, ३६, पड्) ।

अवरिह वि [उपरि] उत्तरीय वक्र, चादर (हे २, १६६, कुमा; गउड, पात्र) ।

अवरिह वि [अपराय] पाश्चात्य, पश्चिम दिशा सवन्धी, 'तो एं तुम्हे अवरिल्लं वरासड गच्छे-ज्जाह' (शाया १, ६) ।

अवरिहड्डपुसण न [दे] १ अकीर्ति, अजस । २ अस्तव्य, झूठ । ३ दान (दे १, ६०) ।

अवस्ड सक [दे] आलिङ्गन करना । अवरड्डइ (दे १ ११, सुर ३, १८२, नवि) । कमं अ-व-रुड्डइ (दे १, ११) । सक अवरुड्डिअ (दे १, ११, स ४०१) ।

अवस्डण } न [दे] आलिङ्गन (नवि, पात्र,  
अवरड्डिअ } दे १, ११) ।

अवरुत्तर पु [अपरोत्तर] १ वायव्य कोण । २ वि वायव्य कोण में स्थित (मग) ।

अवरुत्तरा स्त्री [अपरोत्तरा] वायव्य दिशा, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा (वव ७) ।

अवरुद्ध वि [अवरुद्ध] विरा हुआ (विसे २६७५) ।

अवस्प्पर देखो अवरोप्पर (कुमा, रमा) ।

अवरुह अक [अव + रुह्] नीचे उतरना । अवरुहेहि (मै १४) ।

अवरुय देखो अपुव्व (प्राकू ८५) ।

अवरोप्पर वि [परस्पर] आपस में (हे ४, अवरोवर } ४०६, गउड, सुपा २०, सुर ३, ७६, पड्) ।

अवरोह पु [अवरोह] १ अन्त-पुर, जनान-क्षाना (मुपा ६३) । २ अन्त पुर में रहनेवाली स्त्री (विपा १, ४) । ३ नगर की नीच से घेरना (निव्व ८) । ४ संक्षेप (विसे ३५५५) । ५ प्रतिवन्ध, 'बहं सव्वत्थित्तारोहोत्ति' (विसे १७२३) । ० जुवइ स्त्री [०शुवति] अन्त पुर की स्त्री (पि ३८७) ।

अवरोह पु [अवरोह] जगनेवाना (तृण आदि) (गउड) ।

अवरोह पुं [दे] कटि, कमर (दे १, २८) ।

अवलव सक [अव + लम्भ्] १ सहारा लेना, आश्रय लेना । २ लटकना । अवलंबइ (कस) । अवलंबइ (महा) । वक अवलंब-माण (सम्म ५८) । कवक अवलंबिज्जत (पि ३६७) । सक अवलंबिज्जण, अवल-विच (भाव ५, आचा २, १, ६) । हेक

अवलंबित्तए (दसा ७)। क अवलंबणिय,  
अवलंबिअन्व (से १०, २६)।  
अवलंब { पुं [अवलम्ब, °क] १ सहारा,  
अवलंबरा } आश्रय (आ १६)। २ वि. लट-  
कनेवाला (श्रीप; वव ४)। ३ सहारा लेनेवाला  
(पच ८०)।  
अवलंबण न [अवलम्बन्] १ लटकना। २  
आश्रय, सहारा (ठा ५, २, राय)।  
अवलंबणया स्त्री [अवलम्बनता] श्रवण-  
ज्ञान (एदि १७५)।  
अवलंबि वि [अवलम्बिन्] श्रवण-  
करनेवाला (गडड, विसे २३२६)।  
अवलंबिय वि [अवलम्बित] १ लटका  
हुआ। २ आश्रित (गाया १, १)।  
अवलंबिय देखो अवलंबि (गा ३६७)।  
अवलंबण न [अपलक्षण] खराब लक्षण,  
बुरी आदत (भवि)।  
अवलंबग वि [अवलम्बन्] १ आलस। २ लगा  
हुआ, सलग्न (महा)।  
अवलंबित्त वि [अपलपित] श्रपणुत, छिपाया  
हुआ (स २१२)।  
अवलंबित्त वि [अपलंबित्त] अनादर से प्राप्त  
(ठा ६)।  
अवलंबित्त स्त्री [अवलंबित्त] अप्राप्ति (भग)।  
अवलंबय न [दे] घर, मकान (दे १, २३)।  
अवलंब सक [अप + लप्] १ असत्य  
बोलना। २ सत्य को छिपाना। क्वक  
अवलंबिज्जत (सुपा १३२)। क अवलंब-  
णिज्ज (सुपा ३१५)।  
अवलंब पुं [अपलाप] श्रपण (निचू १)।  
अवलंबि न [दे] असत्य, झूठ (दे १, २२)।  
अवलंबि पु [अवलम्बि] जीव या पुद्गल से  
व्याप्त स्थान-विशेष (ठा २, ४)।  
अवलंबित्त वि [दे] अप्राप्त, अनासादित  
(से ६, ५८)।  
अवलंबित्त वि [अवलंबित्त] व्याप्त (सूत्र १,  
१३, १४)।  
अवलंबित्त वि [अवलंबित्त] १ लिप्त। २ गवित,  
'अलसो सबोवलिन्तो, अलवण-तप्परो  
अइपमाई।  
एवं लिओवि मण्ड, अम्पाणं सुट्टिमो मित्ति'  
(उव)।

अवलुअ देखो अवल्लय (आचा २, ३, १, ६)।  
अवलुआ स्त्री [दे] क्रोध, गुस्ता (दे १, ३६)।  
अवलुत्त वि [अवलुत्त] लोप-प्राप्त (नाट)।  
अवल्लेअ } पुं [अवल्लेप] १ अहकार, गर्व।  
अवल्लेअ } २ लेप, लेपन (पाद्य, महा, नाट)।  
३ श्रवणा, अनादर (गडड)।  
अवल्लेह पु [अवल्लेह] चटनी (वजा १०४)।  
अवल्लेहणिया स्त्री [अवल्लेखनिका] १ वास  
का छिनका (ठा ४, २)। २ वृत्ति आदि काढने  
का एक उपकरण (निचू १)।  
अवल्लेहि } स्त्री [अवल्लेहि, °वा] १ वाम  
अवल्लेहिया } का छिनका (कम्म १, २८)।  
२ लेख विशेष (पव ४)। ३ चावल के आटा  
के साथ पकाया हुआ दूध (पभा ३२)।  
अवल्लेअ सक [अव+ल्लेक्] देखना, श्रव-  
लोकन करना। क्वक अवल्लेअत, अवल्लेए-  
माण (रयण ३६, गाया १, १) सक अव-  
ल्लेअण (काल)। क अवल्लेयणीय (सुपा  
७०)।  
अवल्लेग } पुं [अवल्लेग] श्रवलोकन, दर्शन  
अवल्लेय } (उप ६८६ टी, सुपा ६, स २७६,  
गडड)।  
अवल्लेयण न [अवल्लेकन्] १ दर्शन, विलो-  
कन (गडड)। २ स्थान-विशेष, 'तुगं श्रव-  
ल्लेयण चैव' (पलम ८०, ४)। ३ शिखर-विशेष  
(ती ४)।  
अवल्लेयणी स्त्री [अवल्लेकनी] देवी-विशेष  
(सम्मत् १६०)।  
अवल्लेव पु [अपल्लेव] छिपाना, लोप करना  
(पएह १, २)।  
अवल्लेवणी स्त्री [अपल्लेवणी] विद्या-विशेष  
(पलम ७, १३६)।  
अवल्लेह वि [अपल्लेह] लोहरहित (गडड)।  
अवल्लेय न [दे अवल्लेक] नौका खेवने का  
उपकरण-विशेष (आचा २, ३, १)।  
अवल्लेव } पु [दे अपलाप] असत्यकथन,  
अवल्लेवय } श्रपलाप (दे १, ३८)।  
अवल्लेव न [अवल्लेव] संख्या-विशेष, 'अवल्लेव' को  
चौरामी लाख से गुणने पर जो संख्या लव्व  
हो वह (ठा २, ४)।  
अवल्लेव न [अवल्लेव] संख्या-विशेष, 'अवल्लेव'  
को चौरामी लाख से गुणने पर जो संख्या  
लव्व हो वह (ठा २, ४)।

अवल्लेकल वि [अपवल्लेकल] त्वचारहित  
(गडड)।  
अवल्लेका स्त्री [अवपाक्या] तापिका, छोटा  
तवा (भग ११, ११)।  
अवल्लेग पु [अपल्लेग] मोक्ष, मुक्ति (श्रावम)।  
अवल्लेण न [अपल्लेण] १ श्रपसरण। २  
कर्मपरमाणुओं की दीर्घ स्थिति को छोटी  
करना (पच ५)।  
अवल्लेणया स्त्री [अपल्लेणया] ऊपर देखो (पच  
५)।  
अवल्लेत्त वि [अपल्लेत्त] १ वापस लौटा  
हुआ। २ श्रपसृत (दे १, १५२)।  
अवल्लेक पु [अपल्लेक] कोठरी, छोटा घर  
(मुद्रा ८२)।  
अवल्लेह सक [अप+वल्लेह] बाहर फेंकना, दूर  
हटाना। कर्म श्र उज्झ (पचा १६, ६)।  
अवल्लेअ वि [अपवादिक्] श्रपवाद-संबंधी  
(श्रज्ज १०८)।  
अवल्लेअ वि [अपवादिक्] श्रपवादवाला  
(नाट)।  
अवल्लेय पु [अपवाद्] १ विशेष नियम, श्रप-  
वाद (उप ७८१)। २ निन्दा, श्रवण-वाद  
(पएह २, २)। ३ अनुज्ञा, संमति (निचू १)।  
४ निश्चय, निर्णय वाली हकीकत (निचू ५)।  
अवल्लेय सक [अव+क्या] श्रवकाश देना,  
जगह देना। श्रववासद् (प्राप्र)।  
अवल्लेह सक [अव + गाह] श्रवगाहन  
करना। श्रववाहद् (प्राप्र)।  
अवल्लेह पु [अवल्लेह] गोशालक के एक  
भक्त का नाम (भग ८, ५)।  
अवल्लेड पु [अवपीड] निष्पीडन, दवाना  
(गडड)।  
अवल्लेडण न [अवपीडण] ऊपर देखो  
(गडड)।  
अवल्ले वि [अवश] १ श्रस्वावीन, परावीन  
(सूत्र १, ३, १)। २ स्वतन्त्र, स्वाधीन (से  
१, १)।  
अवल्ले वि [अवश] श्रकाम, अनिच्छु (धर्मसं  
७००)।  
अवल्ले श्र [अवश्यम्] श्रवश्य, जरूर,  
निश्चय (दे ४, ४२७)।



अवमउण न [अपशकुन] अति-सूचक  
निमित्त, खराव शकुन (शोध ८१ ना, ना  
२६१, मुपा ३६३)।  
अवमकि वि [अपशक्तिन्] अपसरण-  
वर्ता (नूत्र १, १०, ४)।  
अवमक न [अव + प्वक्] पीछे हट  
जाना। अवमक्तेवा (आवा)।  
अवमकण न [अव + प्वक्] अपसरण, पीछे  
हटना (पचा १३)।  
अवमकि वि [अपव्यक्तिन्] पीछे हटने  
वाला (आवा)।  
अवमण वि [द] भग हुआ, टाका हुआ  
(पद्)।  
अवमण वि [अवमन्न] निमग्न, 'नागो  
नदा पकननावपरणी' (उत्त १३, ३०)।  
अवमह पु [अपशब्द] १ अशुद्ध शब्द  
(मुत् १६, २४८)। २ खराव वचन (हे १,  
१०२)। ३ अनीति, अपयज्ञ (कुमा)।  
अवमप्य अक [अव + सप्] पीछे हटाना।  
२ निवृत्त होना। ३ उतरना। अवमप्यति  
(पि १७३)।  
अवमप्यण न [अपसर्पण] अपसरण, अप-  
वर्तन (पठम ५६, ७८)।  
अवमप्यि वि [अपसर्पिन्] १ पीछे हटने-  
वाला। २ निवृत्त होनेवाला (नूत्र १, २,  
२)।  
अवमप्यि वि [अपसर्पित] १ अपवृत्त।  
२ निवृत्त। ३ अवतीर्ण (अवि)।  
अवमप्यिणी देवो ओमप्यिणी (भग ३, २,  
नवि)।  
अवममिआ (दे) देवो अवसर्मा (दे १  
३७)।  
अवमय पि [अपशब्द] नीच, अमम (ठा ४,  
५)।  
अवसर अक [अप + स] १ पीछे हटना।  
२ निवृत्त होना। अवसर (हे १, १७२)।  
क अवसरियव्व (उत्त १४६ टी)।  
अवसर अक [अव + स] आश्रय करना।  
सह 'ओसरणम अवसरित्ता' (उत्त १८)।  
अवसर पु [अवसर] १ फाल, समय  
(पाप्र)। २ प्रस्ताव, मौका (प्रानू ५७,  
महा)।

अवसरण देवो ओसरण (पत्र ६०)।  
अवसरण न [अपसरण] १ पीछे हटना।  
२ निवृत्ति (गड्ड)।  
अवसरिय वि [आवसरिक] सामयिक, नम-  
योपयुक्त (मण)।  
अवसरीर पुं [अपशरीर] रोग, व्याधि,  
'सन्नावसरीरहियो' (उत्त ५६७ टी)।  
अवसवस वि [अपम्वस] पराधीन, पर-  
तन्त्र (णाय १, १६)।  
अवसव्व न [अपसव्व] वाम पार्श्व (एदि  
१५९)।  
अवमव्वय न [अपसव्वय] शरीर का  
दहिना भाग (उत्त पृ २०८)।  
अवमह पु [आवमय] घर, मकान (उत्त  
३२)।  
अवसह न [दे] १ उत्सव। २ नियम (दे  
१, ५८)।  
अवसाइअ वि [अप्रसादित] प्रसन्न नहीं  
किया हुआ (से १०, ६३)।  
अवसाण न [अवसान] १ नाश। २ अन्न  
भाग (गड्ड, पि ३६६)।  
अवसाय पु [अवश्याय] हिम, बर्फ (गड्ड)।  
अवसारिअ वि [अप्रसारित] न फैला हुआ,  
अवित्सारित (से, १)।  
अवसारिअ वि [अपसारित] १ आकृष्ट,  
जीचा हुआ (से १, १)। २ दूर किया हुआ,  
हटाया हुआ (मुपा २२२)।  
अवसावण न [अवसावण] १ काँजी (वृह  
१)। २ भात वारह का पानी (नूत्र  
८६)।  
अवसावणिया ली [अवस्थापनिका]  
मुनातेवाली विद्या (धर्मवि १२४)।  
अवमिअ वि [अपसृत] पीछे हटा हुआ  
(से १३, ६३)।  
अवसिअ वि [अवसित] १ समाप्त, परि-  
पूर्ण। २ ज्ञात, जाना हुआ (विसे २८८)।  
अवसिअ अक [अव + मट्] हारना,  
पराजित होना, 'एक्कोवि नावसिअ' (विसे  
२४८४)।  
अवसित्त वि [अवसित्त] लीचा हुआ (रंन  
३१)।

अवसिद् (शी) वि [अवसित] समाप्त, पूर्ण  
(अभि १३३, प्रति १०६)।  
अवसिद्धत्त पुं [अपसिद्धान्त] दूषित सिद्धांत  
(विसे २५५, ६)।  
अवसीय अक [अव + सट्] क्लेश पाना,  
क्लिप्त होना। वहु अवसीयंत (पठम ३३,  
१३१)।  
अवमुअ अक [उट् + वा] सूत्रना, शुष्क  
होना। अवमुअ (पद्)।  
अवसेअ पु [अवसेक] निचन, टिडकाव  
(अभि २१८)।  
अवसेअ वि [अवसेय] जानने योग्य (विसे  
२६३)।  
अवसे (अप) देवो अवस (हे ४, ४२७)।  
अवसेण देवो अवम; 'अवसेण जुजियव्वा'  
(पठम १०२, २०१)।  
अवसेस पु [अवसेप] १ अवशिष्ट, बाकी  
(मुपा ७७)। २ वि सव, सर्व (उत्त २११  
टी)।  
अवसेसिय वि [अवसेपित] १ समाप्त  
किया हुआ, पार पहुँचाया हुआ (से ४,  
४७)। २ बाकी का, अवशिष्ट (भग)।  
अवसेह अक [गम्] जाना। अवसेह (हे  
४, १६२)। अवसेहति (कुमा)।  
अवसेह अक [नञ] भागना, पनायन  
करना। अवसेह (हे ४, १७८, कुमा)।  
अवमोडया ली [अवस्थापिका] निद्रा (मुपा  
६०६)।  
अवसोग वि [अपशोक] १ शोक-रहित।  
२ देव-विशेष (दीव)।  
अवसोण वि [अपशोण] थोड़ा लाल  
(गड्ड)।  
अवसोणणी ली [अवस्थापनी] निद्रा (मुपा  
८७)।  
अवस्स वि [अवस्य] जरूरी, नियत (भावम,  
आव ४)। °कम्म न [°कमेन्] आवश्यक  
क्रिया (आव १)। °करणिअ वि [°करणीय]  
अवश्य करते लायक कर्म, नामयिक आदि।  
°किरिया ली [°क्रिया] आवश्यक अनुष्ठान  
(आव १)। °किअ वि [°कृत्य] आवश्यक  
कार्य (दे)।

अवस्स अ [ अवश्यम् ] जरूर निश्चय (पि ३१५) ।  
 अवस्सपिणी देखो अवसपिणी (संघोष ४८) ।  
 अवस्साअ देखो अवसाय (विक्र) ।  
 अवस्सिय वि [ अवाश्रित ] आश्रित, अवलग्न (धनु ६) ।  
 अवह सक [ रच् ] निर्माण करना, बनाना ।  
 अवहइ (हे ४, ६४) ।  
 अवह स [ उभय ] दोनो, युगल (हे २, १३८) ।  
 अवह वि [ अवह ] न वहता हुआ, जो जानू नही है, बद, 'श्रोतपिणीइ अवहो इमाइ जाओ तमो य सिद्धिपहो (धर्मवि १५१) ।  
 अवहइ स्त्री [ अपहति ] विनाश (विसे २०-१०) ।  
 अवहट्ट वि [ दे ] अभिमानी, गर्वित (दे १, २३) ।  
 अवहट्टु देखो अवहर = अ + ह ।  
 अवहट्ट वि [ अपहृत ] ले लिया गया, छीना हुआ (मुपा २६६, पएह १, ३) ।  
 अवहट्ट वि [ अवहृत ] ऊपर देखो (प्राह) ।  
 अवहट्ट न [ दे ] मुचन (दे १, ३२) ।  
 अवहण्ण पुं [ दे ] ऊजल, शोचन, उद्वलल (दे १, २६) ।  
 अपहत्थ्य पु [ अपहस्त ] मारने के लिए या निकाल बाहर करने के लिए ऊंचा किया हुआ हाथ, 'अवहत्थ्येण हसो कुमरो' (महा) ।  
 अवहत्थ्य सक [ अपहस्त्य ] १ हाथ को ऊंचा करना । २ त्याग करना, छोड़ देना ।  
 अवहत्थ्येइ (महा) । सक अवहत्थ्यऊण, अवहत्थ्यऊण (पि ५८६, महा) ।  
 अवहत्थ्यरा स्त्री [ दे ] लात मारना, पाद-प्रहार (दे १, २२) ।  
 अवहत्थिय वि [ अपहस्तित ] परित्यक्त, दूर किया हुआ (महा, काप्र ५२४, गा ३५३, मुपा १६३, एदि) ।  
 अवह्य वि [ अपहृत ] नष्ट, नाश-प्राप्त (से १४, २८) ।  
 अवह्य वि [ अघातक ] अहिंसक (शोध ७५०) ।

अवहर सक [ गम् ] जाना । अवहरइ (हे ४, १६२) ।  
 अवहर अक [ नग् ] भाग जाना, पलायन करना । अवहरइ (हे ४, १७८, कुमा) ।  
 अवहर सक [ अप + ह् ] १ छीन लेना, अपहरण करना । २ भालाकार करना, भाग देना । अवहरइ (महा) अवहरेत्वा (उवा) ।  
 कवक अवहरिज्जत, अवहीरमाग (सुर ३, १२२, भग २५, ४, एया १, १८) ।  
 सक अवहरिऊण, अवहट्टु (महा, आवा, भग) ।  
 अवहर सक [ अप + ह् ] परित्याग करना ।  
 सक अवहट्टु (सूत्र १, ४, १, १७) ।  
 अवहर वि [ अपहर ] अपहारक, छीन लेनेवाला (गा १५६) ।  
 अवहरण न [ अपहरण ] छीन लेना (कुमा, मुपा २५०) ।  
 अवहरिअ वि [ गत ] गया हुआ (कुमा) ।  
 अवहरिअ वि [ अपहृत ] छीन लिया हुआ (सुर ३, १४१, कुम्पा ६) ।  
 अवहस सक [ अव, अप + हस् ] तुच्छ करना, तिरस्कार करना, उपहास करना ।  
 अवहसइ (एया १, १८) ।  
 अवहसिय वि [ अप, अवहसित ] तिरस्कृत, उपहसित (एया १, ८, सुर १२, ६७) ।  
 अवहाउ सक [ दे ] आक्रोश करना । अवहाउमि (दे १, ४७ टी) ।  
 अवहाडिअ वि [ दे ] उल्लुप्ट, जिस पर आक्रोश किया गया हो वह (दे १, ४७) ।  
 अवहाण न [ अवधान ] १ ब्याल, उपयोग (सुर १०, ७१, कुमा) । २ ज्ञान, जानना (वसे ८२) ।  
 अवहाय पु [ दे ] विरह, वियोग (दे १, ३६) ।  
 अवहाय अ [ अपहाय ] छोड़ कर, त्याग कर (भग १९) ।  
 अवहार सक [ अव + धार्य ] निर्णय करना, निश्चय करना । कर्म अवहारिअइ (स १६६) । हेइ अवहारोउ (भास १६) ।  
 अवहार (अप) देखो अवहर = अ + ह ।  
 अवहारड (भवि) । सक अवहारिवि (भवि) ।  
 अवहार पु [ अपहार ] १ अपहरण (पएह १, ३, मुपा २७५) । २ दूड करना, परित्याग

(एया १, ६) । ३ चोरी (मुपा ४४६) । ४ बाहर करना, निकालना (निचू ७) । ५ भागाकार (भग २५, ४) । ६ नाश, विनाश (सुर ७, १२५) ।  
 अवहार पु [ अवधार ] निश्चय, निर्णय ।  
 वि [ वत् ] निश्चय वाला (डा १०) ।  
 अवहार पु [ अवधार्य ] द्रुव राशि, गणित-प्रतिद्व राशिविशेष (सुत्र १०, ६ टी) ।  
 अवहारण न [ अवधारण ] निश्चय, निर्णय (से ११, १५, स १६६) ।  
 अवहारय वि [ अपहारक ] छीननेवाला, अपहरण करनेवाला (सुर ११, १२) ।  
 अवहारि वि [ अपहारिन् ] अपहारक, छीननेवाला (मुपा ५०३) ।  
 अवहारिय वि [ अवधारित ] निश्चित (स ५७६, पचम २३, ६, मुपा ३३१) ।  
 अवहाय सक [ क्रप् ] दया करना, कृपा करना । अवहावेइ (पड, हे ४, १५१) ।  
 अवहावसु (कुमा) ।  
 अवहाविअ वि [ अवधावित ] गमन के लिए प्रेरित (सिरि ४३४) ।  
 अवहास पुं [ अवभास ] प्रकाश, तेज (गडड, प्राप्र) ।  
 अवहासिणी स्त्री [ अवहासिनी ] नासारज्जु, 'भोतव्वे जोत्तअपग्गहम्मि अवहासिणी मुक्का' (गा ६६४) ।  
 अवहासिय वि [ अवभासित ] प्रकाशित (मुपा १४२) ।  
 अवहि देखो ओहि (मुपा ८६, ५७८, विसे ८२, ७३७) ।  
 अवहिट्ट वि [ दे ] दर्पित, अभिमानी, गर्वित (पड) ।  
 अवहिट्ट न [ दे ] मैथुन, संभोग (सूत्र १, ६, १०) ।  
 अवहिय वि [ अपहृत ] छीन लिया हुआ (पचम २०, ६६, सुर ११, ३२, मुपा ४१३) ।  
 अवहिय वि [ अपहित ] अहित (चंड) ।  
 अवहिय वि [ अवधृत ] नियमित (विसे २६३३) ।  
 अवहिय न [ अवधृत ] अवधारण (वव १) ।  
 अवहिय वि [ अवहित ] सावधान, ब्यालवाला (पाप्र, महा, एया १, २, पचम १०, ६५,

नुपा ४०३) । °मग वि [ °मनस् ] तल्लोन,  
एल्लार-चित्त (नुपा ६) ।

अवहिय वि [रचित] निर्मित बनाया हुआ  
(कुना) ।

अवहीण वि [अवहीन] हीन, उतरता, कम  
दरजा वाला (नाट, वि १००) ।

अवहीण वि [अपधीक] नित्य दुद्धिवाला,  
दुद्धि (परह १, २) ।

अवहीर चक [अव + धीरय्] श्रवणा  
करना, तिरस्कार करना । अवहीर (महा) ।  
वह अवहीरत (नुपा ३१२) । कवक  
अवहीरिज्जत (नुपा ३७६) । चक अव-  
हीरिज्जण (महा) ।

अवहीरण न [अवधीरण] श्रवहेलना, तिर-  
स्कार (गा १४६, प्रसि ६८, गट्ट) ।

अवहीरणा की [अवधीरणा] ऊपर देखो (सि  
१३ १६, वेणी १८) ।

अवहीरमाण देखो अवहर = अप + ह ।

अवहीरिअ वि [अवधीरित] श्रवजात, तिर-  
स्कार (सि ११, ७, गट्ट) ।

अवहील देखो अवहीर । अवहीलह (सरण) ।

अवहीला की [अवहेला] श्रनादन (सिदि  
१७६) ।

अवहूय वि [अवहूत] मा भगया हुआ  
(संवाप ५२) ।

अवहेअ वि [दे] दया-योग्य, दया-पात्र (दे १,  
२०) ।

अवहेअ चक [मुचू] छोड़ना, त्याग करना ।  
अवहेअ (हे ४, ६१) । मंहु अवहेअडि  
(कुना) ।

अवहेअग } १ न [अवहेअक] श्रावे डिर का  
अवहेअय } दर, श्राया मीसो रोग (उत्तनि ३) ।

अवहेअिय वि [दे] नीचे की तरफ मोड़ा हुआ,  
मनमोहित (उत्त १०) ।

अवहेरि } की [अवहेल्य] श्रगणना तिर-  
अवहेरी } स्कार (उत्त २६०, ५६७ टी, भवि,  
नुपा २६१, म्हा) ।

अवहेलअ पि [अवहेलक] तिरस्कारक (नुपा  
१०६) ।

अवहेलय वि [अवहेलन] छोड़ना करने वाला  
(गृम २, ६, १३) ।

अवहेअ पुं [दे] निष्क, वियोग (पट्) ।

अवहोअय देनो अवओअग, 'जो बढो अवहोअ-  
एण' (नुच २, २५) ।

अवहोअय वि [अभयमुत्त] दोनों तरफ मुह  
बाला (फ्राह ३०) ।

अवहोल अक [अव + होलय्] १ कूलना ।  
२ चढे करना । वह अवहोलन्त (गाया  
१, ८) ।

अवाअ वि [अपायिन] १ दु खी । २ दोषी,  
भ्रमराधी, 'निम्भित्तच्चवाई होअ अवाअ य नेह-  
लोएवि' (नुपा २७५) ।

अवाअण वि [अवाचीन] श्रवोमुत्त (गाया  
१, १) ।

अवाअण वि [अवातीन] वायु से श्रनुपहत  
(गाया १, १) ।

अवाअड वि [अ-अप्रापृत] किनी कार्य में  
न लाग हुआ (उत्त पृ ३०२) ।

अवाअड वि [अप्रापृत] श्रनाच्छादित, नम,  
दिगन्तर (गाया १, १, ठा ५, १) ।

अवाअडिअ वि [दे] वञ्चित, प्रतारित (पट्) ।  
अवाण देखो अपाण (पात्र, विपा १, ६) ।

अवाय पु [अपाय] पानी का श्रगमन (श्रा  
२३) ।

अवाय वि [अपात्र] भाग्यरहित (श्रा २३) ।

अवाय वि [अपाग] वृत्तरहित (श्रा २३) ।

अवाय वि [अपाक] पापरहित (श्रा २३) ।

अवाय पु [अवाय] प्राप्ति (श्रा २३) ।

अवाय पु [अपाय] १ श्रनयं, श्रनिट (ठा १) ।

२ दोष, दूषण (मुर ८, १२०) । ३ उदाहरण-  
विशेष (ठा ४, ३) । ४ विनाश (धर्म १) ।

० वियोग, पार्यक्य (एदि) । ६ संशय-रहित  
निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष (ठा ४, ४; एदि) ।

°दमि वि [°दर्शिन] भावी श्रनयों को  
जाननेवाला (ठा ८, द्र ४६) । °विजय न  
[°विचय, °विजय] ध्यान-विशेष (ठा ४, २) ।

अवाय पुं [अवाय] मंशय रहित निश्चयात्मक  
ज्ञान-विशेष, मति ज्ञान का एक भेद (ठा ४,  
४; एदि) ।

अवाय वि [अम्लान] श्रम्यान, श्रमानरहित,  
ताजक 'श्रवायमहमडिया' (ग ३७२) ।

अवायाण न [अपादान] काज-विशेष, श्रा-  
नात्त्वचिरण (ठा ८, विम २०६६) ।

अवार वि [अपार] पार-रहित, श्रनन्त (मै  
६८) ।

अवार पुं [दे] दूकान, हाट (दे १, १२) ।

अवारी की [दे] ऊपर देखो (दे १, १२) ।

अवालुआ की [दे] होठ का प्रान्त भाग (दे  
१, २८) ।

अवाव पुं [अवाप] रसोई, पाक । °कहा की  
[°कथा] रसोई-सम्बन्धी कथा (ठा ४, २) ।

अवाम् } (अप) देखो अवसें (पट्) ।  
अवासें }

अवाह पु [अवाह] देश-विशेष (इक्) ।

अवाहा देखो अवाहा (श्रौप) ।

अवि अ [अपि] निम्नलिखित श्रयों का सूचक

श्रव्य—१ श्रन (सि ५, ४) । २ श्रववाण्ण,  
निश्चय (श्राचा; गा ५००) । ३ समुच्चय (विने  
३५५१, भग १, ७) । ४ संभावना (विने  
३५४८, उत्त ३) । ५ विलाप (पात्र) । ६-७

वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति में भी इसका  
प्रयोग होता है (श्राचा; पठम ८, १४६,  
पट्) ।

अवि पुं [अवि] १ अज । २ भेष (विने  
१७७५) ।

अविअ वि [दे] उक्त, कथित (दे १, १०) ।

अविअ वि [अवित] रक्षित (दे ५, ३५) ।

अविअ अ [अपिच] विशेषण-सूचक श्रव्य  
(पचा ७, २१) ।

अविअ अ [अपिच] समुच्चय-प्रोक्तक श्रव्य  
(मुर २, २४६, भग ३, २) ।

अविअ पु [अविक] भेष, भेद (श्राचा) ।

अविअ वि [अविन्] श्रन, मूर्ख (सट्टि ४६) ।

अविअकतिय वि [अव्युत्क्रान्तिक] उन्वति-  
रहित (भग) ।

अविअसरण न [अव्युत्सर्जन] श्रपरित्याग,  
पात में रचना (भग) ।

अविकंप वि [अविकम्प] निश्चल (पचा १८,  
३५) ।

अविकरण न [अविकरण] गृहीत वस्तुओं को  
पयास्थान न रचना (वृह ३) ।

अविकस्य देखो अवेकर । अविक्कइ (महा) ।  
हेह अविकस्यउं (न ३०७) । वृ अवि-  
कखणिज्ज (विने १७१६) ।

अविक्खग वि [अपेक्षक] अपेक्षा करने वाला  
(विने १७१६) ।

अविक्लवण न [अवेक्षण] अवलोकन, निरीक्षण (भवि) ।  
 अविक्लवण न [अपेक्षण] अपेक्षा, परवाह (विसे १७१६) ।  
 अविक्लवा देखो अवेक्वा (कुमा) ।  
 अविक्लवय वि [अपेक्षित] १ अपेक्षित ।  
 २ न अपेक्षा, परवह, 'नाविक्लवय म्माए' (श्रा १४) ।  
 अविक्लवय वि [अवेक्षित] अवलोकित (मुपा ७२) ।  
 अविगइय वि [अविह्वित्त] घन आदि विकार-जनक वस्तुओं का त्यागी (सूत्र २, २) ।  
 अविगइय वि [अविह्वित्त] अनालोचित (वव १) ।  
 अविगप्प देखो अवियप्प (सुर ४, १८६) ।  
 अविगप्पग वि [अविह्वित्त] १ विकल्प-रहित । २ न कल्पना-रहित प्रत्यक्ष ज्ञान (घमंमं ७४०) ।  
 अविगल वि [अविकल] अखण्ड, पूर्ण (उप २८३) ।  
 अविगिच्छ वि [अविचिक्खित्तस्य] जिसका इलाज न हो मके ऐसा, असाध्य व्याधि; 'तालपुडं गरलाण, जह बहुवाहीण विनिशो वाही । दोसारामसेसाण, तह अविगिच्छो मुसादोमो' (श्रा १२) ।  
 अविगीय पु [अविगीत] अगोतायं, शास्त्रों के रहस्य का अनभिज्ञ साधु (वव ३) ।  
 अविगगह वि [अविग्रह] १ शरीर-रहित । २ युद्ध-रहित, कलह-वर्जित (मुपा २३४) । ३ सरल, सीवा (भग) । ४ गइ की [गति] अकृटिल गति (भग १४, ५) ।  
 अविच्छ वि [अवीप्स्य] वीप्सारहित, व्याप्ति रहित (पह) ।  
 अविजाणय वि [अविजायक] अनजान, मूर्ख (सूत्र १, ५, १) ।  
 अविज्ज वि [अवीज्ज] वीजगति से रहित (पचम ११, २५) ।  
 अविणय पु [अविनय] विनय का अभाव (ठा ३, ३) ।

अविणयवइ } पुं [दे] जार, उपपत्ति (दे १, अविणयवर } १८) ।  
 अविणयवई स्त्री [दे] मतती, कुण्डा (दे १, १८) ।  
 अविणिह वि [अविनिह] निद्रा विच्छेदरहित (गा ६६) ।  
 अविण्णा स्त्री [अविजा] अनुपयोग, ब्याल का अभाव (सूत्र १, १, १) ।  
 अवितह वि [अवितय] सत्य, सच्चा (महा, उव) ।  
 अविट् } अ [अविट्, °टा] विपाद-सूचक अविटा } अव्यय (पि २२, न्वप् ५८) ।  
 अविधि पुंस्त्री [अविधि] १ विच्छेद विधि । २ विधि का अभाव (वृह ३, अचू १) ।  
 अविज्जाण वि [अविज्जान] १ अज्ञान । २ अज्ञात, अपरिचित (पचम ५, २१६) ।  
 अवियड्ढ वि [अविट्ठ] अनिपुण (मुपा ५८२) ।  
 अवियत्त न [अप्रोत्तिक] १ प्रीति का अभाव (ठा १०) । २ वि अप्रोत्तिकारक (पएह १, १) ।  
 अवियत्त वि [अव्यक्त] अस्फुट, अस्पष्ट, 'अवियत्त दसण अणागारं' (सम्म ६५) ।  
 अवियप्प वि [अविकल्प] १ भेदरहित, 'वज्जणपजायस्स उ पुरिसो पुरिमो त्ति निच्च-मवियप्पो' (सम्म ३५) । २ क्रि वि नि सशय, सशयरहित, 'सविमपनिच्चिअप्पं इय पुरिस जो मणिल्ल अविज्ज' (सम्म ३५) ।  
 अवियाउरी स्त्री [दे अविजनयित्री] कन्या स्त्री (गाया १, २) ।  
 अवियाणय देखो अविजाणय (आचा) ।  
 अविरट् स्त्री [अविरति] १ विराम का अभाव, अनिवृत्ति । २ पाप कर्म से अनिवृत्ति (सम १०, पएह २, ५) । ३ हिंसा (कम्म ४) । ४ अद्भ्य, मैथुन (ठा ६) । ५ विरति-परिणाम का अभाव (सूत्र २, २) । ६ वि विरतिरहित (नाट) । ७ वाय पु [°वाद्] १ अविरति की चर्चा । २ मैथुन-चर्चा (ठा ६) ।  
 अविरइय वि [अविरनिक] विरति से रहित, पापनिवृत्ति से वर्जित, पाप कर्म में प्रवृत्त (भग, कस) ।

अविरत्त वि [अविरत्त] वैराग्यरहित (गाया १, १४) ।  
 अविरय वि [अविरत] १ विरामरहित, अविच्छिन्न (गा १५५) । २ पाप निवृत्ति से रहित (ठा २, १) । ३ चतुर्थं गुणस्थानक वाला जीव (कम्म ४, ६३) । ४ क्रि वि सदा, हमेशा (पात्र) । ५ सम्मदिट्ठि स्त्री [°सम्य-ग्दृष्टि] चतुर्थं गुणस्थानक (कम्म २, २) ।  
 अविरल वि [अविरल] निविड, घन (गाया १, १) ।  
 अविरहि वि [अविरहिन्] विरहरहित (कुमा) ।  
 अविराम वि [अविराम] १ विरामरहित । २ क्रि वि निरन्तर, हमेशा (पात्र) ।  
 अविराय वि [अविलीन] अन्नट (कुमा) ।  
 अविराहिय वि [अविराधित] अखण्डित, अपराधित (भग १५) ।  
 अविरिय वि [अवीर्य] वीर्यरहित (भग) ।  
 अविल पु [दे] १ पशु । २ वि कठिन (दे १, ५२) ।  
 अविलविय वि [अविलम्बित] विलम्ब-रहित, शीघ्र (कप्प) ।  
 अविला स्त्री [अविला] मेपी, भेडी (पात्र) ।  
 अविवेग पु [अविवेक] १ विवेक का अभाव । २ वि विवेकरहित । ३ वत वि [°वत्] अविवेकी (पचम ११३, ३९) ।  
 अविसधि वि [अविसधि] पूर्वापर विरोध से रहित, सगत, सवद्ध (श्रीप) ।  
 अविमवाइ वि [अविसंवादिन्] विसवाद-रहित, प्रमाण भूत, सत्य (कुमा, सुर ६, १७८) ।  
 अविमस वि [अविमस] सदृश, तुल्य (कुमा) ।  
 अविसाइ वि [अविपादिन्] विपादरहित (पएह २, १) ।  
 अविसेस वि [अविशेष] तुल्य, समान (ठा २, ३, उप ८७७) ।  
 अविसेसिय वि [अविशेषित] (ठा १०) ।  
 अविस्स न [अविश्र] मास और हविर (पव ४०) ।  
 अविस्साम वि [अविश्राम] १ विरामरहित (पएह १, १) । २ क्रि वि निरन्तर, सदा (उप ७२८ टी) ।

अविहड पु [दे] बालक, बच्चा (वृह १) ।  
 अविहय वि [अविभव] दरिद्र (गउड) ।  
 अविहवा स्त्री [अविधवा] जिसका पति  
 जीवित हो वह स्त्री सववा (राया १, १) ।  
 अविहा देखो अविदा (अभि २२४) ।  
 अविहाड वि [अविघाट] अविघट (वव ७) ।  
 अविहाविअ वि [दे] १ दीन, गरीब । २ न  
 मौन (दे १, ५६) ।  
 अविहाविअ वि [अविभावित] अनालोचित  
 (गउड) ।  
 अविहि देखो अविधि (दस १) ।  
 अविहिअ वि [दे] मत्त, उन्मत्त (पड्) ।  
 अविहित वड्ड [अविघ्नन्] नहीं मारता  
 हुआ, हिंसा नहीं करता हुआ  
 'बन्नेमिन्ति परिणामो, सपत्तीए विमुच्चई वेरा ।  
 अविहितोवि न मुच्चड, किलिट्टुभावोत्ति वा तम्म'  
 (ओष ६०) ।  
 अविहिस वि [अविहिंस] अहिमक (आचा) ।  
 अविहिसा स्त्री [अविहिंसा] अहिंसा (सूअ  
 १, २, १) ।  
 अविहीर वि [अप्रतीत्त] प्रतीक्षा नहीं करने  
 वाला (कुमा) ।  
 अविहेडय वि [अविहेटक] आदर करनेवाला  
 (दस १०, १०) ।  
 अवी देखो अवि (उत्त २०, ३८) ।  
 अवीडय अ [अविचिच्य] अलग न हो कर  
 (भग १०, २) ।  
 अवीडय [अविचिन्त्य] विचार न कर (भग  
 १०, २) ।  
 अवीय वि [अद्वितीय] १ अनाचारण, अनुपम  
 (कुमा) । २ एकाकी, अमहाय (त्रिपा १, २) ।  
 अवुक्क सक [वि + ह्यपय] विज्ञप्ति करना,  
 प्रार्थना करना । अवुक्कइ (हिं ५, ३८) । वड्ड,  
 अवुक्कंत (कुमा) ।  
 अवुड्ड वि [अवृद्ध] तस्त्रण, जवान (कुमा) ।  
 अवुगगह देखो अविगगह (ठा ५, १) ।  
 अवुह देखो अवुह (सण) ।  
 अवुह देखो अवोह (राया १, १) ।  
 अवे सक [अव + इ] जानना । अवेसि (विने  
 १७७३) ।  
 अवे अक [अप + इ] दूर होना, हटना । अवेइ  
 (स २०) । अवेह (मुद्रा १६१) ।

अवेक्ख सक [अप + ईत्त] अपेक्षा करना ।  
 अवेक्खइ (महा) ।  
 अवेक्ख सक [अव + ईत्त] अवलोकन करना ।  
 अवेक्खाहि (स ३१७) सक अवेक्खज्जण  
 (न ५२७) ।  
 अवेक्खा स्त्री [अपेक्षा] अपेक्षा, परवाह (सुर  
 ३, ८५, स ५६२) ।  
 अवेक्खि वि [अपेक्षिन्] अपेक्षा करनेवाला  
 (गउड) ।  
 अवेक्खिय वि [अपेक्षित] जिसकी अपेक्षा  
 हुई हो वह (अभि २१६) ।  
 अवेक्खिय वि [अवेक्षित] अवलोकित  
 (अभि १६६) ।  
 अवेय वि [अपेत] रहित, वजित (विसे  
 २२१३) । °रुइ वि [°रुचि] रुचि-रहित,  
 निरीह (उप ७२८ टी) ।  
 अवेय } वि [अवेद, °क] १ पुरुष-वेदादि  
 अवेयग } वेद से रहित (परण १) । २ मुक्त,  
 मोक्ष-प्राप्त (ठा २, १) ।  
 अवेसि देखो अवेमि (दे १, ८, पाअ) ।  
 अवेह देवो अवेक्ख = अव + ईत्त । अवेहइ  
 (सूअ ६) ।  
 अवोअड वि [अव्याकृत] अव्यक्त, अस्पष्ट  
 (भास ७६) ।  
 अवोच्छिण्ण देखो अवोच्छिण्ण (आचा) ।  
 अवोच्छित्ति देखो अवोच्छित्ति (ठा ५,  
 ३) ।  
 अवोह सक [अप + ऊह] १ विचार करना ।  
 २ निर्णय करना । अवोहए (आवम) ।  
 अवोह पु [अपोह] १ विकल्पज्ञान, तर्क-  
 विशेष । २ त्याग, वर्जन (उप ६६७) । ३  
 निर्णय, निश्चय (सुंदि) ।  
 अव्वईभाव पु [अव्ययीभाव] व्याकरण-  
 प्रसिद्ध एक समास (अणु) ।  
 अव्वग वि [अव्यङ्ग] असत, अखण्ड (वव  
 ७) ।  
 अव्वग न [अव्यङ्ग] १ पूर्ण अंग, पूरा  
 शरीर । २ वि अविक्कल, अन्नून, सपूर्ण, 'पनि-  
 हियअव्वगघोयसियवसणा' (घर्मवि १७,  
 १५) ।  
 अव्वक्खिन्त वि [अव्याप्ति] १ विक्षेप-  
 रहित । २ तल्लीन, एकाग्र (उत्त २०) ।

अव्वग वि [अव्यग्र] ध्यप्रताशून्य, अनाकुल  
 (उत्त १५) ।  
 अव्वत्त } वि [अव्यक्त] १ अस्पष्ट, अस्पष्ट  
 अव्वत्तय } उप ७६८ टी, सुर ४, २१४, आ  
 २७) । २ छोटी उमर का बालक, बच्चा  
 (निड्ड १८) । ३ अगीतार्थ, गाल्ल-रहन्थान-  
 मिन्न (साधु) (घर्म २, आचा) । ४ पुं  
 अव्यक्त मत का प्रवर्तक एक जैनाभास मुनि  
 (ठा ७) । ५ न माह्य मत में प्रसिद्ध प्रकृति  
 (श्रावम) । °मय न [°मत्त] एक जैनाभास  
 मत (विने) ।  
 अव्वत्तव्य वि [अव्यक्तव्य] १ अव्यक्तनीय ।  
 २ पु कर्मवन्ध विशेष, जब जीव सर्वथा कर्म-  
 वन्धरहित होकर फिर जो कर्मवन्ध करे वह  
 (णव ५, १२) ।  
 अव्वत्तिय देखो अवत्तिय (श्रीप, विने,  
 श्रावम) ।  
 अव्वभिचारि वि [अव्यभिचारिन्] एका-  
 न्तिक (पचा २, ३७) ।  
 अव्वय न [अव्यय] 'च' आदि निपात (वेह्य  
 ६८३) ।  
 अव्वय न [अव्रत] १ व्रत का अभाव (आ  
 १६, सम १३२) । २ वि व्रतरहित (विसे  
 २५४२) ।  
 अव्वय वि [अव्यय] १ अज्ञय, अखूट (मुपा  
 ३२१) । २ नित्य, शाश्वत (भग २, १) ।  
 अव्ववसिय वि [अव्यवसित] १ अनिश्चित-  
 सदिग्ध । २ अपराक्रमी (ठा ३, ४) ।  
 अव्वसण वि [अव्यसन] १ व्यसन-रहित ।  
 २ पुन लोकोत्तर रीति से १२ वां दिन (जं  
 ७) ।  
 अव्वह वि [अव्यथ] १ व्यथारहित । २  
 न निश्चल ध्यान (ठा ४, १, श्रीप) ।  
 अव्वहिय वि [अव्यथित] १ अपीडित  
 (पचा ५) । २ निश्चल (वृह १) ।  
 अव्वा स्त्री [अर्वाक्] पर से भिन्न, 'णो  
 हव्वाए णो पाराए' (सूअ २, १, ६) ।  
 अव्वा स्त्री [दे अम्मा] माता, जननी (दे १,  
 ५, (पड्) ।  
 अव्वाइद्ध वि [अव्याविद्ध] १ अविपर्यस्त  
 अविपरीत । २ न सूत्र का एक गुण, अक्षरो  
 की उलट-मुलट का अभाव (वृह १, गच्छ २) ।

अव्यागड वि [अव्याकृत] अव्यक्त, अस्पष्ट (आचा, सत ६ टी) ।  
 अव्याण वि [आव्याण] थोडा स्निग्ध (श्लोघ ४८८) ।  
 अव्यावाह वि [अव्यावाह] १ हरज-रहित, वाधा-वर्जित (आव ३) । २ न रोग का अभाव (भग १८, १०) । ३ सुख (आवम) । ४ मोक्ष-स्थान, मुक्ति (भग १, १) । ५ पु लोकांतिक देव-विशेष (गाया १, ८) ।  
 अव्यावाह पुन [अव्यावाह] एक देवविमान (देवेन्द्र १४५) ।  
 अव्यावह वि [अव्यावह] १ जो व्यवहार में न लाया गया हो, व्यापार-रहित । २ एक प्रकार का वान्तु (वृह ३) ।  
 अव्यावन्न वि [अव्यापन्न] अविनष्ट, नाश को अप्राप्त (भग १, ७) ।  
 अव्यावार वि [अव्यावार] व्यापार-वर्जित (स ५०) ।  
 अव्याहय वि [अव्याहय] १ रूकावट-वर्जित (भा ४, ४; सुपा ८६) । २ अनुपहत, आघात-रहित (एदि) । ३ पुन्यावरत्त न [पूर्वा-परत्य] जिसमें पूर्वापर का विरोध या असंगति न हो ऐसा (वचन) (राय) ।  
 अव्याहार पु [अव्याहार] न बोलना, मौन (पाप्र) ।  
 अव्याहिय वि [अव्याहय] न बुलाया हुआ (जीव ३, आचा) ।  
 अव्यिरय वि [अविरय] विरति-रहित (सट्टि ८) ।  
 अव्यो अ नीचे के अर्थों में ने, प्रकरण के अनु-सार, किमी एक अर्थ का सूचक अव्यय—१ सूचना । २ दु ख । ३ संभाषण । ४ अपराध । ५ विस्मय । ६ आनन्द । ७ आदर । ८ भय । ९ खेद । १० विपाद । ११ पश्चात्ताप, 'अव्यो हरति हियय, तहवि न वेसा हवनि जुवईण । अव्यो किपि र्हस्स, मुणति धुता जणव्हिआ ॥ अव्यो सुपहायमिणं, अव्यो अज्जम्ह मप्फन जीअ । अव्यो अइअम्मि तुमे, नवर जइ सा न चूरिहिइ ॥' (हे ३, २०५) ।  
 अव्योगड वि [अव्याकृत] १ अविशेषित

(वृह २) । २ फैलाव-रहित (दमा ३) । ३ नही वाटा हुआ । ४ अस्पष्ट, अस्पष्ट । ५ न एक प्रकार का वान्तु (वृह ३) ।  
 अव्योच्छिण्ण वि [अव्युच्छिन्न, अव्यव-च्छिन्न] १ आन्तर-रहित, सतत, विच्छेद-वर्जित (वव ७) । २ नित्य । ३ अव्याहृत (गउड) ।  
 अव्योच्छित्ति स्त्री [अव्युच्छित्ति, अव्यव-च्छित्ति] १ सातत्य, प्रवाह, बीच में विच्छेद का अभाव, परंपरा से बराबर चला आना (आवम) । २ नय पु [नय] वस्तु को किसी न किमी रूप से स्थायी माननेवाला पक्ष, द्रव्याधिक नय (भग ७, ३) ।  
 अव्योच्छिन्न देखो अव्योच्छिण्ण (श्लोघ ३२२, स २५६) ।  
 अव्योयड देखो अव्योगड (भग १०, ४; भाग ७१) ।  
 अस सक [अश्] व्याप्त करना । असइ, अमए (पड) ।  
 अस अक [अम्] होना । अस्सि, 'हाहा ह्योहमस्सि त्ति वट्टु' (भग १५) । अस्सि (प्राप) । अस्सि (हे ३, १४६, १४७, १४८) । भूका अस्सि, अस्सो (भग, उवा) ।  
 अम सक [अश्] भोजन करना, खाना । अमइ, 'अव्वमणोमालूर नासइ दोसोवि जत्थाही' (मार्थ १०६, भवि) । वक्क असंत (भवि) । क अमियव्व (सुपा ४३८) ।  
 अस वक्क [असत्] अविद्यमान, अमत्, 'दुह्यो ए विणस्सति, नो य उप्पज्जए अम' (सूत्र १, १, १, १६) ।  
 असइ स्त्री [असृत्ति] १ उलटा रखा हुआ हस्त तल । २ धान्य मापने का एक परिमाण । ३ उत्तसे मापा हुआ धान्य (अणु, गाया १, ७) ।  
 असइ स्त्री [दे असत्त्व] अभाव, अविद्यमानता, 'पढम जईण दाज्जए, अण्णया परामिअण पारेइ । असईय सुविहियाण, भुजेइ य कयदिसालोअो' (उवा) ।  
 असइ } अ [असकृत] अनेकवार, वार-  
 असइ } वार (भवि, आचा, उप ८३३ टी) ।  
 असइ स्त्री [असती] १ कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री (सुपा ६) । २ दासी (भग ८, ६) । ३ पोस

[पुं पोप] घन के लिए दासी, नपुंसक या पशुओं का पालन, 'असईगोस च वज्जिआ' (आ २२) । ३ पोसणया स्त्री [पोपणा] देखो अनन्तरोक्त अर्थ (पडि) ।  
 असउग पुन [अशकुन] अपराकुन (पचा ७) ।  
 असक वि [अराङ्क] १ शङ्का-रहित, असं-दिग्ध । २ निडर, निर्भय (आचा, मुर २, २६) ।  
 असंकल वि [अशृङ्खल] शृङ्खला-रहित, अनियन्त्रित (कुमा) ।  
 असकि वि [अशङ्किन्] संदेह न करने वाला (सूत्र १, १, २) ।  
 असकिलिट्ट वि [असक्किट्ट] १ संक्लेश-रहित । २ विशुद्ध, निर्दोष (श्रीप, परह २, १) ।  
 असख वि [असखय] सख्या-रहित, परिमाण-रहित (सूपा ५६६, जी २७, ४०) ।  
 असख न [असखय] साख्य मत से भिन्न दर्शन (सुपा ५६६) ।  
 असखड स्त्रीन [दे] कलह, भगडा, 'जत्य य समणीणमसत्तडाइ गच्छम्मि नेव जायति' (गच्छ ३, ११) । स्त्री ३ डी (पव १०६) ।  
 असखड न [दे] कलह, भगडा (निचू १) ।  
 असखडिय वि [दे] कलह करने वाला, भगडाखोर (वृह १) ।  
 असखय देखो असख = असंख्य (स ८५) ।  
 असखय वि [असखय] १ सस्कार-हीन । २ सधान करने के अशक्य (राज) ।  
 असखिज्ज वि [असख्येय] गिनती या परि-माण करने के अशक्य (नव ३५) ।  
 असखिज्जय देखो असखेज्जय (अणु) ।  
 असखेज्ज देखो असखिज्ज (भग) ।  
 असखेज्जइ वि [असरयेय] असख्यातवा । ३ भाग पु [भाग] असख्यातवा हिंसा (श्रीप, भग) ।  
 असखेज्जय पुन [असखेयक] गणना-विशेष (अणु) ।  
 असग वि [असङ्ग] १ निम्न, अनासन (परण २) । २ पु आत्मा (आचा) । ३ मुक्त जीव । ४ न मोक्ष, मुक्ति (पचव ३, श्रीप) ।  
 असगय न [दे] वक्त्र, कपडा (दे १, ३४) ।

असगहिय वि [असगृहीत] १ जिसका संग्रह न किया गया हो वह । २ अनाश्रित (ठा ८) ।  
 असगहिय वि [असग्रहिक] १ मग्रह न करने वाला । २ पु. नौम नय का एक भेद (विमे) ।  
 असगिअ पु [दे] १ अत्र घोडा । २ वि अनवन्वित, चञ्चल (दि १, ५५) ।  
 असंघयण वि [असहनन] महनन ने रहित । २ वज्र, अपम, नाराच आदि प्रायमिक तीन मंघयणों ने रहित (निचू २०) ।  
 असजण न [असजन] नि द्रुता, अनानक्ति (निचू १) ।  
 असजम वि [असयम] १ हिमा, झूठ आदि नावय अनुष्ठान (सूत्र १ १३) । २ हिमा आदि पाप-कार्यों ने अनिवृत्ति (धर्म ३) । ३ अज्ञान (आचा) । ४ असमावि (वव १) ।  
 असजय वि [असयत] १ हिमा आदि पाप कार्यों से अनिवृत्त (सूत्र १, १०) । २ हिमा आदि करने वाला (भग ६, ३) । ३ पु. नाधु-मित्र, गृह्य (आचा) ।  
 असजल पु [असज्वल] १ ऐरवत वर्ष के एक जिनदेव का नाम (सम १५३) ।  
 असजोगि वि [असयोगिन्] १ सयोग-रहित । २ पु. मुक्त जीव, मुक्तात्मा (ठा २, १) ।  
 असत वहु [असत्] १ अविद्यमान (नव ३३) । २ झूठ, असत्य (परह १, २) । ३ अमुदर, अचार (परह २, २) ।  
 असत देवो अस = अग् ।  
 असत वि [अशान्त] शान्तरहित, क्रुद्ध (परह २, २) ।  
 असन वि [असत्त्व] सत्त्व-रहित, बल-शून्य (परह १, २) ।  
 असयड वि [दे असत्त्वृत] अशक्त, असमर्थ (आचा, वृह ५) ।  
 असथरत वहु [दे असत्तरन्] १ समर्थ न होता हुआ । २ बोज न करना हुआ (वव ८) । ३ वृत्त न होता हुआ (शोध १२२) ।  
 असथरण न [दे. असत्तरण] १ निर्वाह का अभाव (वृह १) । २ पर्याप्त लाभ का अभाव (पचव २) । ३ असमर्थता, अशक्त अवस्था (धर्म ३ निचू १) ।

असंथरमाण वहु [दे असत्तरमाण] देवो असथरत (वव ४, शोध १२१) ।  
 असधिम वि [असधिम] सवान रहित, अक्षरएड (वृह ५) ।  
 असभंत पुं [असभ्रान्त] प्रथम नरक का छठावां नरकेन्द्रक—नरक-न्याय विगेष (दिवेन्द्र ८) ।  
 असभव्य वि [असभाड्य] जिनकी उभावना न हो नके ऐसा (आ १२) ।  
 असंभावणीय वि [असभावनीय] ऊपर देखो (महा) ।  
 असलप्य वि [असलप्य] अनिर्वचनीय (अणु) ।  
 असल्योय पुं [असलोक] १ अप्रकाश । २ वह न्यान जिसमे लोगो का गमनागमन न हो, भीडरहित न्यान (आचा) ।  
 असवर पु [असवर] आत्रव, सवर का अभाव (ठा ५, २) ।  
 असवरीय वि [असवृत] १ अनाच्छादित । २ नहीं रका हुआ (कुमा) ।  
 असवुड वि [असवृत] अच्यत, पाप-कर्म ने अनिवृत्त (सूत्र १, १, ३) ।  
 अससइय वि [असगयित] असदिग्ध (सूत्र २, २) ।  
 अससट्ट वि [असंसट्ट] १ दूसरे से न मिला हुआ (वृह २) । २ लेप-रहित (श्रीप) । ३ स्त्री पिएडैपणा का एक भेद (पव ६६) ।  
 असंसत्त वि [अससत्त] १ अमिलित (उत्त २) । २ अनासक्त (वच ८, उत्त ३) ।  
 अससय वि [असगय] १ सशय-रहित (वृह १) । २ क्लिबि. नि सदेह, नशी (अभि ११०) ।  
 अससार पु [असंसार] नसार का अभाव, मोक्ष (जीव १) ।  
 अससि वि [अससिन्] अविनवर (कुमा) ।  
 असक वि [अशक्य] जिसको न कर सके वह (सुपा ६५१) ।  
 असक वि [अशक्त] अनमर्थ (कुमा) ।  
 असक्य वि [असकृत] सन्कार-रहित (परह १, २) ।  
 असक्य वि [असकृत] सन्कार-रहित (परह १, २) ।  
 असकणिज्ज नि [अशकनीय] अशक्य (कुमा) ।

असगाह } पु [असदग्रह] १ कदाग्रह (उप  
 असग्गाह } ६७२, सुपा १३४) । २ अति-  
 असग्गाह } निर्वन्व, विशेष आग्रह (भवि) ।  
 असञ्च न [अमत्य] १ झूठ वचन (प्रासू ५५१) । २ वि झूठा (परह १, २) । ३ मोस न [°मृप] झूठ से मिला हुआ मत्य (द्र २२) ।  
 वाइ वि [°वादिन्] झूठ बोलने वाला (मम ५०, पचम ११, ३८) । ३ मोस न [°मृप] न मत्य और न झूठ ऐसा वचन (आचा) ।  
 मोसा ली [°मृपा] देखो अनन्तरोक्त अर्थ (पच १) । ३ सध वि [°मंघ] १ अत्य-प्रतिज्ञ । २ असत्य अभिप्राय वाला (महा, परह १, २) ।  
 अमज्ज } वहु [असजन्] नग न  
 असज्जमाण } करता हुआ (आचा, उत्त १४) ।  
 अमज्जाइय वि [अस्वाध्यायिक] पठन-पाठन का प्रतिबन्धक कारण (पव २६८) ।  
 असज्जाय पु [अस्वाध्याय] अनव्याय, वह काल जिनमे पठन-पाठन का निषेध किया गया है (गच्छ ३, ३०) ।  
 असड्ड वि [अश्रद्ध] श्रद्धारहित (कुमा) ।  
 अमड वि [अशठ] सरल, निष्कपट (सुपा ५५०) । ३ करण वि [°करण] निष्कपट भाव से अनुष्ठान करने वाला (वृह ६) ।  
 असण न [अगन] १ भोजन, खाना (निचू ११) । २ जो खाया जाय वह, खाद्य पदार्थ (पव ४) ।  
 असण पु [असन] १ वीजक नामक वृक्ष (परण ६, रागा १, १, श्रीप; पास; कुमा) । २ न क्षेपण, फेंकना (विसे २७६५) ।  
 असणि पुत्री [अशान्ति] १ एक प्रकार की विजली (सुज २०) । २ पु. एक नरक-न्यान (दिवेन्द्र २६) ।  
 अमणि पुंश्री [अशान्ति] १ वज्र (पास) । २ आकारा से गिरता अग्नि-नयण (परण १) । ३ वज्र का अग्नि (जी ६) । ४ अग्नि (म ३३२) । ५ अश्वविशेष (स ३८५) । ६ पपह पु [°प्रम] रावण के मामा का नाम (ने १२, ६१) ।  
 मेह पुं [°मेघ] १ वह वर्षा जिनमे शीले गिरने हैं । २ अति भयकर वर्षा, प्रलय-मेघ (भा ७, ६) । ३ वेग पु [°वेग] विद्याधरो का एक राजा (पचम ६, १५७) ।

असणी स्त्री [अगनी] एक इन्द्राणी (ठा ४, -१) ।  
 अमणी स्त्री [अशनी] जिह्वा, जीम, 'अवला-  
 रासणी कम्माण मोहण तह वयाण वम च'  
 (मुत्त २, ४२) ।  
 असण्ण वि [असञ्ज] सञ्चारहित, अचेतन  
 (लहुअ ६) ।  
 अर्माण वि [असत्तिन्] १ सन्नि-भिन्न,  
 मनोज्ञान से रहित (जीव) (ठा २, २) । २  
 सम्यग्दृष्टि भिन्न, जैनेतर (भग १, २) । ३ सुय  
 न [°श्रुत] जैनेतर शास्त्र (एण्दि) ।  
 असत्त वि [अशक्त] असमर्थ (नुर ३, २४४,  
 १०, १७४) ।  
 अमत्त वि [असक्त] अनासक्त (आचा) ।  
 असत्त न [असत्त्वं] अभाव, असत्ता (एण्दि) ।  
 असत्ति स्त्री [अशक्ति] नामर्थ का अभाव ।  
 °मत्त वि [°मत्] असमर्थ, अशक्त (पंचम  
 ६६, ३६) ।  
 असत्थ वि [अस्वस्थ] अतदुल्लन्त, वीमार  
 (नुर ३, १२७) ।  
 असत्थ न [अशस्त्र] १ गन्त्र-भिन्न । २ समय,  
 निर्दोष अनुष्ठान (आचा) ।  
 असद्द पु [अशब्द] १ अकीर्ति, अपयश  
 (गच्छ २) । २ वि शब्दरहित (वृह ३) ।  
 असद्द वि [अशब्द] शब्दारहित । स्त्री °द्वी  
 (उप पृ ३६४) ।  
 असन्नि देवो असण्णि (भग; जी ४३) ।  
 अमवल वि [अगवल] १ अमिश्रित । २  
 निर्दोष, पवित्र (परह २, १) ।  
 असम्भ वि [असम्भ] अशिष्ट, जगती (स  
 ६५०) । °भासि वि [भापिन्] असम्भ-  
 भाषी (सुर ६, २१०) ।  
 असम्भाव पु [असद्भाव] १ यथार्थता का  
 अभाव, भूठ (पिंड) । २ वि अनत्य, अयथार्थ  
 (उत्त ३, श्रौप) ।  
 असम्भावि वि [असद्भाविन्] भूठा, असत्य  
 (महा) ।  
 अमम्भूय वि [अमद्भूत] असत्य (भग) ।  
 असम वि [असम] १ असमान, असाधारण  
 (नुर ३, २४) । २ एक, तीन, पाच आदि  
 एकाई मध्या वाला, विषम । °सर पु [°शर]  
 कामदेव (गठह) ।

असमवाड न [असमवायिन्] नैयायिक और  
 वैशेषिक मत प्रसिद्ध कारण-विशेष (विमे  
 २०६६) ।  
 असमजस वि [असमञ्जस] १ अव्यवस्थित,  
 गैरव्याजवी (आचा; नुर २, १३१, सुपा  
 ६२३, उप १०००) । २ क्रि वि अव्यवस्थित  
 रूप से (पात्र) ।  
 असमकित्तय वि [असमीक्षित] अना-  
 लोचित, अविचारित (परह १, २) । °कार  
 वि [°कारन्] साहसिक । °कारिया स्त्री  
 [°कारिता] साहन कर्म (उप ७६८ टी) ।  
 असरासय वि [दे] निर्दय, निष्ठुर हृदय  
 वाला (दे १, ४०) ।  
 असलाल वि [अश्लील] असम्भ भाषा (मोह  
 ८७) ।  
 असव पु [असु] प्राण, 'विज्जतामवो विअ  
 ठिगो कवि काल' (न ३५७) ।  
 असवण्ण वि [असवण] असमान, असाधारण  
 (सएण) ।  
 असवार पु [अश्ववार] घुडसवार (धर्मवि  
 ४१) ।  
 असह वि [असह] १ असहिष्णु (कुमा, सुपा  
 ६२०) । २ असमर्थ (वव १) । ३ खेद करने  
 वाला (पात्र) ।  
 असहण वि [असहन] असहिष्णु, क्रोधो  
 (पात्र) ।  
 असहाय वि [असहाय] १ सहायरहित  
 (भग) । २ एकाकी (वृह ४) ।  
 असहिज्ज वि [असाहाय्य] १ सहायता-  
 रहित । २ सहायता का अनिच्छुक (उवा) ।  
 असहीण वि [अस्वाधीन] परतन्त्र, पराधीन  
 (दस ८) ।  
 असहु वि [असह] १ असहिष्णु (उव) ।  
 २ असमर्थ, अशक्त (श्रोध ३६, भा) । ३  
 वीमार, ग्लान (निचू १) । ४ सुकुमार, कोमल  
 (ठा ३, ३) ।  
 असहेज्ज देवो असहिज्ज (भग) ।  
 असागारिय वि [असागारिक] गृहल्यो के  
 आवागमन से रहित म्यान (वव ३) ।  
 अमाढभूइ पुं [अपाढभूनि] एक जैन मुनि  
 (पिंड ४७४) ।

असाढय न [असाढक] वृण-विशेष (परएण  
 १, पत्र ३३) ।  
 असाय न [असात] दु ख, पीडा (परह १, १)-  
 'रागवा इह जीवा,  
 दुल्लहलोयम्मि गाढमणुरत्ता ।  
 ज वेइति अमाय, कत्तो तं हृदि नरएवि'  
 (सुर ८, ७६) ।  
 °वेयणिज्ज न [°वेदनीय] दु ख का कारण-  
 भूत कर्म (ठा २, ४) ।  
 असार } वि [असार, °क] निस्तार, सार-  
 असारय } रहित (महा; कुमा) ।  
 असारा स्त्री [दे] कदली-वृक्ष, केला का पेड  
 (दे १, १२) ।  
 असालिय पुत्री [द्] सध की एक जाति  
 (सूअ २, ३, २४) ।  
 असासय वि [अशाश्वत] अनित्य, विनश्वर  
 (एणा १, १; गा २४७) ।  
 असाहण न [असाधन] असिद्धि (सुर ४,  
 २४८) ।  
 असाधारण वि [असाधारण] अनुल्य, अनुपम  
 (भग; दंस) ।  
 असि पु [असि] १ खड्ग, तलवार (पात्र) ।  
 २ इस नाम की नरकपाल देवो की एक जाति  
 (भग ३, ६) । ३ स्त्री वनारस की एक नदी  
 का नाम (ती ३८) । °कुड न [°कुण्ड] मथुरा  
 का एक तीर्थ-स्थान (ती ७) । °वाय पु  
 [°घात] तलवार का घाव (पंचम ५६, २५) ।  
 °चम्मपाय न [°चर्मपात्र] तलवार की  
 म्यान, कोश (भग ३, ५) । °धारा स्त्री  
 [°धारा] तलवार की धार (उत्त १९) ।  
 °धेणु, °धेणुआ स्त्री [°धेनु °धेनुमा] छुरी  
 (गठह; पात्र) । °पत्त न [°पत्र] १ तलवार  
 (विपा १, ६) । २ तलवार के जैसा तीक्ष्ण  
 पत्र (भग ३, ६) । ३ तलवार की पत्तरी (जीव  
 ३) । ४ पु नरकपाल देवो की एक जाति (सम  
 २६) । °पुत्तगा स्त्री [°पुत्तिगा] छुरी (उप  
 पृ ३३४) । °मुट्टि स्त्री [°मुट्टि] तलवार  
 की मूठ (पात्र) । °रयण न [°रत्न] चक्रवर्ती  
 राजा की एक उत्तम तलवार (ठा ७) । °लट्टि  
 स्त्री [°यट्टि] खड्ग-नता, तलवार (विपा १,  
 -३) । °वण न [°वन] खड्गाकार पत्ते वाले  
 वृक्षो का जंगल (परह १, १) । °वत्त देवो



[°पत्त] (मे ३, २२) । °हर वि [°घर] तनवार-वारक, बोडा (से ६ १८) । °हारा देखो °धारा (उव) ।

असिइ (अप) देखो अमीड (नए) ।

असिण न [अशान] भोजन, खाना, 'अग-पिट परिवृद्धिमाए' पेहाए पुरा अमिणा इवा अकहाच इवा' (आचा २, १, ५, १) ।

असित्य न [अमिअथ] आटा लगे हुए हाथ या दर्तन का बपडे से छुना हुआ धोवन (पडि) ।

अमिद्व वि [असिद्व] १ अतिपन्न । २ तर्क-गात्र प्रसिद्ध दुष्ट हेतु (विसे २८२४) ।

अमिय वि [अशिन] भुक्त, खादित (पात्र-नुपा २१२) ।

असिप वि [असित] १ कृष्ण, श्वेतरहित (पात्र) । २ अशुभ (विसे) । ३ अन्नद, अ-यन्त्रित (सूत्र १, २, १), 'मिया एगे अणु-च्छति, अनिया एगे अणुगच्छति' (आचा) । °कव पु [°क्ष] यज्ञ-विशेष (सएण) ।

असिय न [दि] दान, दांती (दे १, १४) ।

असियव्व देवो अस = अग् ।

असिलेसा ली [अउलेपा] नक्षत्र-विशेष (सम ११) ।

अमिलोग पु [अउलोक] अकीर्ति, अजस (सम १०) ।

असिव न [अशिव] १ विनाश । २ अमुख । ३ देवतादि कृन उपद्रव (श्रोप ७) । ४ मारी रोग (वव ४) ।

असिचिण पु [अरपन्न] देव, देवता (प्राप्ता) ।

अमिअव्व देखो अमिय (वव ७, प्राप्) ।

असिमुई ली [अशिअी] मिशुरहित ली (प्राक् २८) ।

असिह वि [अशिव] शिन्वारहित (वव ४) ।

असीइ ली [अगीति] संरथा-विशेष, अन्वी, ८० (सम ८८) । °म वि [°तम] अत्सीवां, ८० वां (पठम ८०, ७४) ।

असीइग वि [अशीतिक] अन्वी वपं की उन्न वाना (तदु १७) ।

असीम वि [अमीमन] निन्मीम, 'अमीमत-मत्तराएण' (उप ७२८ टी) ।

असील वि [अशील] १ दु गोल, अमदा-चारो (परह १, २) । २ न अमदाचार, अन्नहाचर्य । °मन वि [°वन्] १ अन्नहाचारो (श्रोप ७७७) । २ अनयत (मूत्र १, ७) ।

अमु पु व [असु] १ प्राण (स ३८३) । २ न चित्त । ३ ताप (प्राप्र-वृप ११) ।

असु देवो असु (प्राप्र) ।

अमुइ वि [अशुचि] १ अपवित्र, अस्वच्छ, मलिन (श्रोप, वव ३) । २ न अमेव्य विद्या (ठा ६ प्राप् १६६) ।

अमुइ वि [अशुचि] शास्त्रवयण-रहित (भग ७, ६) ।

अमुईकय वि [अशुचीकृत] अपवित्र किया हुआ (उप ७२८ टी) ।

असुग पु [असुक] देखो असु = अमु (हे १, १७७) ।

असुज्जत वि [अउश्रयमान] नहीं दिखाता हुआ, 'अन्नपि जं अमुज्जत । भुजतएण रत्ति' (पठम १०३, २५) ।

असुणि वि [अश्रोतृ] न सुननेवाला, अलि-वपदपरि अणिमित्तकोवणे अशुरिण मुणनु मह वयण' (वजा ७२) ।

असुद्व वि [अशुद्व] १ अन्वच्छ मलिन । २ न मैला अशुचि । °विसोहय पु [°विशो-घक] भगी, महतर (मुर १६, १६५) ।

असुभ देखो असुह = अशुभ (सम ६७, भग) ।

असुय वि [अशुत] न सुना हुआ (ठा ४, ४) । °णिभिसिय न [°निश्रिज] शास्त्र-अवण के विना हो जानेवाली बुद्धि—ज्ञान (एदि) । °पुंअ वि [°पूर्व] पहले कभी नहो सुना हुआ (महा, एाया १, १, पठम ६५, १४) ।

असुय वि [असुत] पुत्ररहित (उत्त २) ।

असुर पुं [असुर] १ दैत्य, दानव (पात्र) । २ देवजाति-विशेष भवनपति और व्यन्तर देवो की जाति (परह १, ४) । ३ दास-न्या-नीय देव (आठ ३६) । °कुमार पु [°कुमार] भवनपति देवो की एक अवान्तर जाति (ज १, १, महा) । °राय पु [°राज] अनुरो का इन्द्र (पि ४००) । °वदि पुं [°वन्दिन्] राजन (मे ६, ५०) ।

असुरिंद पु [असुरेन्द्र] अनुरो का राजा, इन्द्र-विशेष (एाया १, ८, नुपा ७७) ।

असुह न [अशुभ] १ अमंगल, अतिष्ट (सुर ४, १६३) । २ पाप-कर्म (ठा ४, ४) । ३ वि खराव, अनुन्दर (जीव १; कुमा) । °णाम न [°नामन्] अशुभ फल देनेवाला कर्म-विशेष (सम ६७) ।

असुइ न [असुय] दु ख (ठा ३, ३) ।

असूअ मक [असूय] असूया करना । असू-एहि (मे ७) ।

असूया ली [असूचा] १ सूचना का अभाव । २ दूसरे के दोषों को न कह कर अपना ही दोष कहना (निचू १०) ।

असूया ली [असूया] असूया, अतहिप्युता (इस) ।

असूरिय वि [असूर्य] १ सूर्यरहित, अन्व-कारमय स्थान । २ पुं नरक-स्थान (सूत्र १, ५, १) ।

असेव्व देखो असिव (प्राप्र) ।

असेव्व वि [असेव्य] मेवा के अयोग्य (गडड) ।

असेस वि [अगोप] नि शेष, मवं (प्राप्र) ।

असोअ पु [अशोक] १ देव-विशेष (राय असोग } ८१) । २ पुंन एक देवविमान (देवेन्द्र १४२) । ३ गरु आदि इन्द्रों का एक आभाव्य विमान (देवेन्द्र २६३) । °वडिसय पुन [°वतंसक] सौवर्म देवलोक का एक विमान (राय ५६) ।

असोग पुं [अगोक] १ सुप्रसिद्ध वृक्ष-विशेष (श्रोप) । २ महाप्रह-विशेष (ठा २, ३) । हरा रग (राय) । ४ भगवान् मल्लिनाथ का चैत्य-वृक्ष (सम १५२) । ५ देव-विशेष (जीव ३) । ६ न तीर्थ-विशेष (ती १०) । ७ यज्ञ-विशेष (विपा १, ३) । ८ वि गोक-रहित । °चद पुं [°चन्द्र] १ राजा श्रेणिके का पुत्र, राजा कोणिक (आवम) । २ एक प्रसिद्ध जेनाचार्य (गार्ध ७७) । °ललिय पुं [°ललित] चतुर्व्य बलदेव का पूर्व-जन्मीय नाम (सम १५३) । °वण न [°वन] अगोक वृक्षों वाला वन (भग) । °वणिया ली [°वनिका] अगोक वृक्ष वाला वगोचा (एाया १, १६) । °सिरि पु [°श्री] इस नाम का एक प्रख्यात राजा, सम्राट् अगोक (विसे ८६२) ।

असोगा स्त्री [अशोका] १ इस नाम की एक इन्द्राणी (ठा ४, १) । २ भगवान् श्री शीतलनाय की शासनदेवी (पत्र २७) । ३ एक नगरी का नाम (पद्य २०, १८६) ।

असोभण वि [अगोभन] अनुन्दर, खराब (पद्य ६६, १६) ।

अमोय देवो असोग (भग महा, रमा) ।  
अमोय पुं [अश्वयुक्] श्राद्धिन मास (सम २९) ।

असोय वि [अशौच] १ शौचरहित (महा) ।  
२ न शौच का अभाव अशुचिता । वाइ वि [वादिन्] अशौच को ही माननेवाला (श्लोक ३१८) ।

अमोयगया स्त्री [अगोचनता] शोक का अभाव (पक्ति) ।

अमोया देवो असोगा (ठा २, ३, नति २) ।

असोह्यि वि [अपक्व] कच्चा (उवा) ।

असोहि स्त्री [अशोधि] १ अशुद्धि । २ विराघना (श्लोक ७८८) । ठाण न [स्थान] १ पाप-कर्म । २ अशुद्धि स्थान । ३ दुर्जन का नसर्ग । ४ अनायतन (श्लोक ७६३) ।

अस्स न [आस्य] मुख, मुँह (ठा ९८६) ।

अस्स वि [अस्य] १ द्रव्यरहित, निर्वन्त । २ २ निर्त्रय, साधु, मुनि (आचा) ।

अस्स पु [अश्व] १ घोडा (उप ७६८ टी) ।  
२ अश्विनी नक्षत्र का अश्विप्रायक देव (ठा २, ३) । ३ ऋषि-विशेष (ज ७) । कण्ण पु [कर्ण] १ एक अन्तर्द्वीप । २ इस अन्तर्द्वीप का निवासी (एदि) । कण्णी स्त्री [कर्णी] वनस्पति-विशेष (परण १) ।  
करण न [करण] जहाँ घोडा रखने में आता हो वह स्थान, अन्तर्वन (आचा २, १०, १८) । गीव पुं [गीव] पहले प्रति-वानुदेव का नाम (सम १०३) । तर पुत्री [तर] लक्ष्मण (परण १) । मुह पु [मुख] १-२ इस नाम का एक अन्तर्द्वीप और उनके निवासी (एदि, परण १) । मेह पु [मेघ] यज्ञ-विशेष, जिनमें अश्व मारा जाता है (अणु) । सेण पु [सेन] १ एक प्रसिद्ध राजा, भगवान् पार्श्वनाथ का पिता (पत्र ११) । २ एक महाप्रह का नाम (चन्द ३०) ।

यिर पु [यिर] विद्यावर वरा के एक राजा का नाम (पद्य ५, ४२) ।

अस्स न [अस] १ अयु, श्रामू । २ हविर, वून (प्राक २६) ।

अस्संख वि [असंख्य] सख्या-रहित (उप १७) ।

अस्सगिअ वि [दि] ग्रामक (पड) ।

अस्संघयणि वि [असहननिन] सहनरहित, किमी प्रकार के शारीरिक बन्ध से रहित (भग) ।

अस्सजम देवो असजम (उव) ।

अस्सजय वि [अस्ययत] १ गुरु की आज्ञानुसार चलनेवाला, अस्वच्छदी (आ ३१) ।

अस्सजय देवो असजय (उव) ।

अस्सदम पु [अश्वन्दम] अश्व-पालक (मुपा ६४५) ।

अस्सच्च देवो अमच्च, 'भुरिणो हवच वयण-मस्सच्च' (उप १४६ टी) ।

अस्सणि देवो अमणि (विने ५१६) ।

अस्सत्थ पुं [अश्वत्थ] वृक्ष-विशेष, पीपल (नाट) ।

अस्सत्थ वि [अश्वत्थ] रोगी, बीमार (सुर ३, १५१, माल ६५) ।

अस्सन्नि देवो असणि (सुर १४, ६६, कम्म ४, २, ३) ।

अस्सम पु [आश्रम] १ स्थान, जगह । २ ऋषियों का स्थान (अभि ६६, स्वप्न २५) ।

अस्समिअ वि [अश्रमिन] श्रमरहित, अनभ्यासी (भग) ।

अस्सवार देवो असवार (नम्मत् १४२) ।

अस्सस अक [आ + उचस्] आश्वासन लेना । हेहू अस्ससिट्टु (श्री) (अभि १२०) ।

अस्साइय वि [आस्वादित] जिसका आस्वादन किया गया हो वह (दे) ।

अस्साएमाण देवो अस्साय = आस्वादय् ।

अस्साद चक [आ + सादय्] प्राप्त करना । अस्सादेति, अस्सादेस्सामी (भग १५) ।

अस्साद चक [आ + सादय्] आन्वादन करना ।

अस्सादण देवो अस्सायण (सुज १०, १६) ।

अस्सादिय वि [आसादित] प्राप्त किया हुआ (भग १५) ।

अस्साय देवो अस्साद = आ + सादय् ।

अस्साय देवो अस्साद = आ + स्वादय् । वहु, अस्साएमाण (भग १२, १) । क अस्सायणिज्ज (एणाया १, १२) ।

अस्साय देवो असाय (कम्म २, ७, भग) ।

अस्सायण पु [आश्वायण] १ अश्व ऋषि का नतान (ज ७) । २ अश्विनी नक्षत्र का गोत्र (इक) ।

अस्सावि वि [आस्वाविन्] भरता हुआ, टपकता हुआ, संचिद्ध, 'जहा अस्साविणि नाव जाइअवो दुहए' (सुअ १, १, २) ।

अस्सास नक [आ + आसय्] आश्वासन देना, दिलाया देना । अस्सासमिअदि (श्री) (पि ४६०) । अस्सासि (उत्त २, ४०, पि ४६१) ।

अस्सामण पु [आशवासन] एक महाप्रह (सुज २०) ।

अस्सि स्त्री [अश्रि] १ कोण, घर आदि का कोना (ठा ६) । २ तलवार आदि का अग्रभाग—घार (उप पृ ६६) ।

अस्सि पु [अश्विन] अश्विनी नक्षत्र का अश्विप्रायक देव (ठा २, २) ।

अस्सिणी स्त्री [अश्विनी] इस नाम का एक नक्षत्र (नम ८) ।

अस्सिय वि [आश्रित] आश्रय-प्राप्त, 'विराग-मेगमन्मिअ' (वसु, ठा ७, सया १८) ।

अस्सु पुन [अश्रु] श्रांसू, 'अस्सू' (संक्षि १७) ।

अस्सु (श्री) न [अश्रु] श्रांसू (अभि ५९, स्वप्न ८५) ।

अस्सुक वि [अशुक्त] जिनकी चुगी या फीम माफ की गई हो वह (उप ५६७ टी) ।

अस्सुद (श्री) देवो असुय = अश्रुत (अभि १६३) ।

अस्सुय वि [अस्मृत] याद नहीं किया हुआ (भग) ।

अस्सेसा देवो असिलेसा (सम १७, विसे ३४०८) ।

अस्सोई स्त्री [आश्वयुजी] श्राद्धिन मास की पूर्णिमा (चद १०) ।

अस्सोई स्त्री [आश्वयुजी] श्राद्धिन मास की अश्विन मास की अश्विन (सुज १०, ६ टी) देवो असोया ।

अस्सोकता स्त्री [अश्वोत्क्रान्ता] सर्गोत्-शास्त्र प्रसिद्ध मध्यम ग्राम की पाचवी मूर्च्छना (ठा ७) ।

अस्तोत्य देवो अम्मत्य (पि ७४, १०२, ३०६) ।

अस्तोयन्त्र वि [अश्रोतन्त्र] मुनते के अयोग्य (सुर १४, २) ।

अह अ [अथ] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ अथ, वाद (स्वप्न ४३, व ३१, कुमा) ।  
२ अथवा, और,

'छिज्जत्त सीम अह होठ ववण चयत्त  
नव्वहा लच्छी ।

पडिवन्नपालणे सुपुग्गिमाण ज होठ त होठ ॥'  
(प्रासू ३) ।

३ मगल (कुमा) । ८ प्रश्न । ५ समुच्चय । ६ प्रतिवचन, उत्तर (बृह १) । ७ विशेष (ठा ७) । ८ यथार्थता, वास्तविकता (विमे १२७६) ।  
९ पूर्वपक्ष (विमे १७८३) । १०-११ वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए और पाद-पूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है (सूत्र १, ७, पंचा १६) ।

अह त् [अहन्] दिवम, दिन (धा १४, पाद्य) ।

अह अ [अधम्] नीचे (सुर २, ३८) ।  
°लोग पु [°लोक] पाताल-लोक (मुपा ४०) ।  
°स्थ वि [°स्थ] नीचे रहा हुआ, निम्न स्थित (पद्म १०२, ६५) ।

अह स [अद्म्] यह, वह (पाद्य) ।

अह न [दे] दु ख (दे १, ६) ।

अह न [अध] पाप (पाद्य) ।

अह° देवो अहा (हे १, २४५, कुमा) । °कम, °कमसो अ [°कम] कम के अनुत्तर, अनुक्रम से (श्रीध ५ भाः स ६) । °कवाय, °खाय न [°ख्यात्] निर्वोप चारित्र्य, परिपूर्ण समय (ठा ५, २, नव २६, कुमा) । °कमायसजय वि [°त्यातसयत्त] परिपूर्ण समय वाला (भग २५, ७) । °च्छद देवो अहात्त (स ६) । °त्य वि [°स्थ] ठीक-ठीक रहा हुआ, यथास्थित (ठा ९, ३) । °थ्य वि [°थ्य] वास्तविक (ठा ५, ३) । °पहाण अ [°प्रधान] प्रधान के हिसाब से (भग १५) ।

अहइ अ [अथकिम्] स्वीकार-सूचक अव्यय—हाँ, अच्छा (नाट, प्रयो ५) ।

अहकार पुं [अहकार] अभिमान, गर्व (सूत्र १, ६, स्वप्न ८२) ।

अहकारि वि [अहकारिन्] अभिमानी, गविष्ट (गउड) ।

अहणिस न [अहणिण] रात-दिन, नवदा (पिण) ।

अहकम्म देवो अहेकम्म (पिड १३०) ।

अहण वि [अधन] निर्धन, धनरहित (विसे २८१२) ।

अहणिणस न [अहणिण] रात-दिन, निरन्तर (नाट) ।

अहत्ता अ [अधस्तान्] नीचे (भग) ।

अहत्त वि [अधन्य] अप्रयत्न्य, हतभाग्य (सुर २, ३७) ।

अहत्तिस देवो अहणिणस (मुपा ४६२) ।

अहम वि [अधम] अधम, नीच (कुमा) ।

अहमति वि [अहमन्तिन्] अभिमानी, गविष्ट (ठा १०) ।

अहमहमिआ } स्त्री [अहमहमिका] में  
अहमहमिगया } इमने पहले हो जाऊ ऐसी  
अहमहमिगा } चेष्टा, अनुत्कण्ठा (गा ५८०, सुपा ५४ १३२, १४८) ।

अहमिद पृ [अहमिन्द्र] १ उत्तम-श्रेणीय पूर्ण स्वाधीन देवजाति विशेष, अनेक और अनुत्तर विमान के निवासी देव (इक) । २ अपने को इन्द्र समझने वाला, गविष्ट, 'सपह पुण रायाणो नरिद । सव्वेवि महमिदा' (सुर १, १२६) ।

अहम्म देवो अधम्म (सूत्र १, १, २, भग, नव ६, सुर २, ४४; मुपा २५८, प्रासू १३६) ।

अहम्म वि [अधर्म्य] धर्मच्युत, धर्मरहित, गैरव्याजवी (सण) ।

अहम्माणि वि [अहम्मानिन्] अभिमानी (भावम) ।

अहम्मि वि [अधमिन्] धर्म रहित, पापी (मुपा १७२) ।

अहम्मिट्ट देवो अधम्मिट्ट (भग १०, २, राय) ।

अहम्मिय वि [अधामिक] अधर्मी, पापी (विपा १, १) ।

अहय वि [अहत] १ अनुबद्ध, अव्यवच्छिन्न (ठा ८, पत्र २१८) । २ अलत, अक्षरिद्धत (सूत्र २, २) । ३ जो दूसरी तरफ लिया गया हो (चद १६) । ४ नया, नूतन (भग ८, ६) ।

अहर वि [दे] अशक्त, असमर्थ (दे १, १७) ।

अहर पु [अधर] १ होठ, श्रोत्र (एदि) । २ वि नीचे का, नीचला (परह १, ३) । ३ नीच, अधन (परह १, २) । ४ दूसरा, अन्य (प्रासा) । °गइ स्त्री [°गति] अयोगति, दुर्गति, नीच गति; 'अहग्गइ निनि कम्माइ' (पिड) ।

अहरिय वि [अधरित] तिरस्कृत (मुपा ४७) ।

अहरी स्त्री [अधरी] पेपण-शिना, जिस पर मसाला बगैरह पीना जाता है वह पत्थर, मिलवट (उवा) । °ल्लोठ्ट पु [°ल्लेष्ट] जिसमें पीना जाता है वह पत्थर, लोढा (उवा) ।

अहरीकय वि [अधरीकृत] तिरस्कृत अव-गणित (मुपा ४) ।

अहरीभूय वि [अधरीभूत] तिरस्कृत, 'चयरेण धरतीए, नगरयणमिम महप्पह देवि । अहरीभूयमनेस, जयपि तुह खण्णत्तमाए' (मुपा ३५) ।

अहरुद्ध पुन [अधरोष्ट] नीचे का होठ (परह १, ३, हे १, ८४, पड्) ।

अहरेम देवो अहिरेम । अहरेमइ (हे ८, १६९) ।

अहरेमिअ वि [पूरित] पूरा किया हुआ (कुमा) ।

अहल वि [अफल] निष्फल, निरर्थक (प्रासू १३५, रंभा) ।

अहलद न [अयालन्द] पाँच रात का समय (पत्र ७०) ।

अहलदि देवो अहालदि (पत्र ७०) ।

अहव देवो अहवा (हे १, ६७) ।

अहवइ (अप) देवो अहवा (कुमा) ।

अहवण } अ [अथवा] १ वाक्यालकार में  
अहवा } प्रयुक्त किया जाता अव्यय (प्रासू, सूत्र २, २) । २ या, अथवा (बृह १, निचू १, पत्रा ३, हे १, ६७) ।

अहव्व देवो अभव्व (गा ३६०) ।

अहव्वग पुं [अथर्वन्] चौथा वेद-शास्त्र (श्रीप) ।

अहव्वा स्त्री [दे] असती, कुलटा स्त्री (दे-१, १८) ।

अहह अ [अहह] इन अर्थों का सूचक

अव्यय—१ आमन्त्रण । २ वेद । ३ आश्रयं ।  
४ दुःख । ५ आविष्य, प्रकपं (हे २, २१७;  
आ १४, कप्, गा ६५६) ।

अहा° अ [यथा] जैसे, माफिक, अनुसार (हे  
१, २४५) । °छन्द वि [°च्छन्द] १  
स्वच्छन्दी, स्वेतो (उप ८३३ टी) । २ न मरुती  
के अनुसार (वव २) । °जाय वि [°जात]  
१ नम, प्रावरण-रहित (हे १, १४५) । २ न  
जन्म के अनुसार । ३ जैन साधुओं में दीक्षा  
काल के परिमाण के अनुसार किया जाता  
वन्दन—नमस्कार (धर्म ०) । °गुपुञ्जी स्त्री  
[°नुपूर्वी] यथाक्रम, अनुक्रम (शाया १, १,  
पद्य १, ८) । °तच्च न [°तत्त्व] तत्त्व के  
अनुसार (भग २, १) । °तच्च न [°तद्य]  
सत्य-सत्य (सम १६) । °पडिरुव वि  
[°प्रतिरुप] १ उचित, योग्य (श्रौष) । २  
त्रिवि यवायोग्य (विपा १, १) । °पवत्त वि  
[°प्रवृत्त] १ पूर्व की तरह ही प्रवृत्त, अपरि-  
वर्तित (शाया १, ८) । २ न आत्मा का  
परिणाम-विशेष (स ४७) । °पवित्तिकरण  
न [°प्रवृत्तिकरण] आत्मा का परिणाम-  
विशेष (कम्म ८) । °वायर वि [°वाटर]  
निस्कार, चार-रहित (शाया १, १) । °भूय  
वि [°भूत] तात्त्विक, वास्तविक (ठा १, १) ।  
°राइगिय, °रायणिय न [°रात्रिक] यथा-  
ज्येष्ठ, वडे के क्रम में (शाया १, १, आचा) ।  
°रिय न [°रुजु] सरलता के अनुसार  
(आचा) । °रिह न [°ई] यथोचित (ठा २,  
१) । २ वि उचित, योग्य (धर्म १) । °रीय  
न [°रीत] १ रीति के अनुसार । २ स्वभाव  
के माफिक (भग ५, २) । °लड पु [°लन्द]  
काल का एक परिमाण, पानी में भोजा हुआ  
शय जितने समय में सूख जाय उतना समय  
(कप्) । °वगास न [°वकाश] अथकाय  
के अनुसार (सूत्र २, ३) । °वच्च वि [°पत्य]  
पुत्र-न्यानीय (भग ३, ७) । °मथड वि  
[°ससृव] शयन के योग्य (आचा) । °सवि-  
भाग पु [°सविभाग] साधु को दान देना  
(उवा) । °मच्च न [°सत्य] वास्तविकता,  
सच्चाई (आचा) । °सत्ति न [°अक्ति] शक्ति  
के अनुसार (पसू ४) । °सुत्त न [°सूत्र]  
आगम के अनुसार (सम ७७) । °सुह, न

[°सुव] इच्छानुसार (शाया १, १, भग) ।  
°सुहुम वि [°सूद्धम] सारभूत (भग ३, १) ।  
देखो अह° ।

अहालद वि [यथालन्द] यथानुजात (काल),  
इच्छानुसार (समय) (आचा २, ७, १, -२) ।

अहालंदि पुं [यथालन्दिन] 'यथालन्द' अनु-  
ष्ठान करने वाला मुनि (पव ७०) ।

अहासखड वि [दे] निष्कम्प, निश्चल (निचू  
२) ।

अहासल वि [अहास्य] हान्य-रहित (मुपा  
६१०) ।

अहाह अ [अहाह] देखो अहह (हे २,  
२१७) ।

अहि देखो अभि (गडड, पात्र, पंचव ४) ।

अहि अ [अधि] इन श्रयों का मूचक अव्यय—  
१ आविष्य, विगेपता, 'अहिगव, अहिमास' ।  
२ अविचार, सत्ता: 'अहिगय' । ३ ऐश्वर्य,  
'अहिद्वार' । ४ ऊँचा, ऊपर, 'अहिद्वार' ।

अहि पु [अहि] १ मर्ष, साँप (परण १, प्रासू  
१६, ३६, १०५) । २ शेष नाग (पिंग) ।  
°च्छत्ता स्त्री [°च्छत्रा] नगरी-विशेष (शाया  
१, १६, तो ७) । °मड पुन [°मृतक] साँप  
का मुदा (शाया १, ६) । °वइ पु [°पति]  
शेष नाग (अचु ६०) । °विच्छिअ पुं  
[°वृश्चिक] सर्प के मूय से उत्पन्न होने वाली  
वृश्चिक जाति (कुमा) ।

अहिअल न [दे] क्रोध, गुन्मा (दे १, ३६,  
पड) ।

अहिआअ न [अभिजात] कुलीनता, खान-  
दानो (गा ३८) ।

अहिआड स्त्री [अभिजाति] कुलीनता  
(पड) ।

अहिआर पु [दे] लोक-यात्रा, जीवन-निर्वाह  
(दे १, २६) ।

अहिउत्त वि [दे] व्याप्त, वचित (गडड) ।

अहिउत्त वि [अभियुक्त] १ विद्वान्, परिउत ।  
२ उग्रत, उग्रोगी (पात्र) । ३ शत्रु ने घिरा  
हुआ (वेणी १२३ टि) ।

अहिऊर सक [अभि + पूर्य] पूर्ण करना,  
व्याप्त करना । कर्म अहिऊरवति (गडड) ।

अहिऊल सक [दह] जनाना, दहन

करना । अहिऊलड (हे ४, २०८, पड,  
कुमा) ।

अहिओय पु [अभियोग] १ सक्व (गडड) ।  
२ दोषारोपण (न २२६) । देखो अभिओअ  
(भवि) ।

अहिंठ पु [अहीन्द्र] १ सपों का राजा,  
जेप नाग (अचु १) । २ श्रेष्ठ सर्प (कुमा) ।  
°बुर न [°पुर] वामुकि-नगर । °बुरणाह पुं  
[°पुरनाय] विष्णु, अच्युत (अचु २६) ।

अहिंसग वि [अहिंसक] हिंसा न करने  
वाला (श्रौष ७४७) ।

अहिंसण न [अहिंसन] अहिंसा (धर्म १) ।  
अहिंसय देखो अहिंसग (परह २, १) ।

अहिंसा स्त्री [अहिंसा] दूसरे को किसी प्रकार  
से दुःख न देना (निचू २, धर्म ३; सूत्र १,  
११) ।

अहिंसिय वि [अहिमित] अमारित, अपी-  
डित (सूत्र १, १, ४) ।

अहिकख देखो अभिकख वहु अहिकखत  
(पचव ४) ।

अहिकखिर वि [अभिकाक्षिन्] अभिलापी,  
इच्छुक (सण) ।

अहिकखि देखो अहिकखिर (सूत्र १, १२,  
२२) ।

अहिकय वि [अधिकृत] जिसका अविचार  
चरता हो वह, प्रच्युत (विसे १५८) ।

अहिकरण देखो अहिगरण (निचू ४) ।  
अहिकरणी देखो अहिगरणी (ठा ८) ।

अहिकार देखो अहिगार (उत्त १४, १७) ।  
अहिकारि देखो अहिगारि (रंभा) ।

अहिकिअ अ [अधिकृत्य] अविचार कर,  
उद्देश्य कर (आचू १) ।

अहिकखण न [दे] उपालम, उलहना (दे १,  
३५) ।

अहिकिखत्त वि [अभिक्षिप्त] १ तिरस्कृत ।  
२ निन्दित । ३ स्थापित । ४ परित्यक्त । ५  
क्षिप्त (नाट) ।

अहिकिखल सक [अधि + क्षिप्] १  
तिरस्कार करना । २ फेंकना । ३ निन्दना ।  
४ न्यापित करना । ५ छोड़ देना । अहिकिख-  
वड (उव) । अहिकिखवाहि (स ३२६) । वहु  
अहिकिखवत (पद्य ६५, ४४) ।

अहिकखेव पु [अधिनेप] १ तिग्स्कार ।  
 २ न्यापन । ३ प्रेरणा (वाट) ।  
 अहिरिव देखो अहिकखिव वट्ट अहिरिवत्त  
 (सु ५७) ।  
 अहिग देखो अहिय = अघिक (विसे १६४३  
 टी) ।  
 अहिसीर नक् [दे] १ पकडना । २ आघात  
 करना । अहिसीरइ (भवि) ।  
 अहिगध वि [आधिगन्ध] अघिक गन्ध वाला  
 (गड्ड) ।  
 अहिगम नक् [अधि + गम्] १ जानना ।  
 २ निर्णय करना । ३ प्राप्त करना । कृ  
 अहिगम्म (सम्म १६७) ।  
 अहिगम नक् [अभि + गम्] १ सामने  
 जाना २ आदर करना । कृ अहिगम्म  
 (सण) ।  
 अहिगम पु [अधिगम] १ ज्ञान (विसे  
 ६०८) ।  
 'जीवाइएमहिमो मिच्छन्तस्स खमोवत्समभावे'  
 (धर्म २) । २ उपलम्भ, प्राप्ति (दे ७, १४) ।  
 ३ गुरु आदि का उपदेश (विसे २६७५) ।  
 ४ सेवा, भक्ति (सम ५१) । ५ न गुरु आदि  
 के उपदेश से होनेवाली सद्वर्ष-प्राप्ति—सम्य-  
 क्तव (सुपा ६४८) । ६ रुइ स्त्री [रुचि] १  
 सम्यक्त्व का एक भेद । २ सम्यक्त्व वाला  
 (पव १४५) ।  
 अहिगम देखो अभिगम (श्रौप, से ८, ३३,  
 गड्ड) ।  
 अहिगमण न [अधिगमन] १ ज्ञान । २  
 निर्णय । ३ प्राप्ति, उपलम्भ (विसे) ।  
 अहिगमय वि [अधिगमक] जनानेवाला,  
 वतलानेवाला (विसे ५०३) ।  
 अहिगमिय वि [अधिगत] १ ज्ञात । २  
 निश्चित (सुर १, १८१) ।  
 अहिगम्म देखो अहिगम = अघि + गम् ।  
 अहिगम्म देखो अहिगम = अभि + गम् ।  
 अहिगय वि [अधिघृत] १ प्रस्तुत (खण  
 ३६) । २ न, प्रस्ताव, प्रसंग (राज) ।  
 अहिगय वि [अधिगत] १ उपलब्ध, प्राप्त  
 (उत्त १०) । २ ज्ञात (दे ६, १४८) । ३  
 पु. गीतार्थ गुनि, शास्त्राभिज्ञ साधु (वव १) ।  
 अहिगर पुं [दे] अजार (जीव १) ।

अहिगरण पुं [अधिकरण] १ युद्ध लड़ाई  
 (उप पृ २६८) । २ अश्रयण, पाप-कर्म से  
 अनिवृत्ति (उप ८७२) । ३ आत्म-भिन्न वाद्य  
 वस्तु (अ २, १) । ४ पाप जनक क्रिया  
 (णाय १, ५) । ५ आचार (विसे ८४) ।  
 ६ भेद, उपहार (वृह १) । ७ कलह, विवाद  
 (वृह १) । ८ हिंसा का उपकरण, 'मोहघेण  
 य रइय हलउक्कलमुसलपमुहुमहिगरण' (विसे  
 ६१) । ९ कट्ट, कर वि [कर] कलहकारक  
 (सूत्र १, २, २, आत्ता) । १० किरिया स्त्री  
 [क्रिया] पाप-जनक कृति, दुर्गाति मे ले  
 जानेवाली क्रिया (परह १, २) । ११ सिद्धत  
 पुं [सिद्धान्त] आनुपंगिक सिद्धि करनेवाला  
 निदान्त (सूत्र १, १२) ।

अहिगरणी स्त्री [अधिकरणी] लोहार का  
 एक उपकरण (भग १६, १) । १० खोडि स्त्री  
 [खोटि] जिनपर अघिकरणी रखी जाती  
 है वह काष्ठ (भग १६, १) ।

अहिगरणिगो स्त्री [अधिकरणीकी] देखो  
 अहिगरणीया } अहिगरण-किरिया (सम  
 १०० ठा २, १, नव १७) ।

अहिगरी [दे] अजारिन, स्त्री अजार (जीव  
 २) ।

अहिगार पु [अधिकार] १ वैभव, संपत्ति,  
 'नियअहिगारणुख्व जम्मणमहिमं विहिन्सामो'  
 (सुपा ४१) । २ हक, सत्ता (सुपा ३५०) ।  
 ३ प्रस्ताव, प्रस्ता (विसे ४८७) । ४ न्य-  
 विभाग (वनु) । ५ योग्यता, पात्रता (प्राप्त  
 १३५) ।

अहिगारि } वि [अधिकारिन्] १ अमल-  
 अहिगारिय } दार, राज-नियुक्त सत्तावीश,  
 'ता तप्युराहिगारी समागमो तय तन्मि खणे'  
 (सुपा ३५०, आ २७) । २ पात्र, योग्य (प्राप्त  
 १३५, नण) ।

अहिगिच्च घ [अधिघृत्य] अघिकार करके  
 (उवर ३६, ६६) ।

अहिघाय पुं [अभिघात] आस्फालन, आघात  
 (गड्ड) ।

अहिघत्ता स्त्री [अधिघत्ता] नगरी-विशेष,  
 कुर्जंगल देश की प्राचीन राजधानी (मिदि  
 ७८) ।

अहिजाइ स्त्री [अभिजाति] कुलीनता (प्राप्र) ।

अहिजाण नक् [अभि + जा] पहिचानना ।  
 भवि अहिजाणित्तिदि (शौ) (पि ५३४) ।  
 अहिजाय वि [अभिघात] कुलीन (भग ६,  
 ३३) ।

अहिजुंज देखो अभिजुज । नक् अहिजुजिय  
 (भग) ।

अहिजुत्त देखो अभिजुत्त (प्रवो ८४) ।

अहिज्ज सक [अधि + ज्] पटना, अभ्यास  
 करना । अहिज्ज (अत २) । वक् अहिज्जंत.  
 अहिज्जमाग (उप १६६ टी, उवा) । संक-  
 अहिज्जित्ता, अहित्ता (उत्त १, सूत्र १, १२)  
 हेक् अहिज्जित्त (दस ४) ।

अहिज्ज वि [अधिज्य] धनुष की डोरी पर  
 चड़ाया हुआ (वारण) (दे ७, ६२) ।

अहिज्ज } वि [अभिज्ज] जानकार, निपुण  
 अहिज्जग } (पि २६६, प्राहु, दस) ।

अहिज्जण न [अध्ययन] पठन, अभ्यास (विसे  
 ७ टी) ।

अहिज्जाण (शौ) देखो अहिज्जाण (प्राहु ८७) ।  
 अहिज्जाधिय वि [अध्यापित] पाठित, पढाया  
 हुआ (उप पृ ३३) ।

अहिज्जिय वि [अधीत] पठित, अभ्यन्त (सुर  
 ८, १२१, उप ५३० टी) ।

अहिज्जिय वि [अभिधियत] लोभ-रहित,  
 अलुब्ध (नग ६, ३) ।

अहिट्ट सक [अधि + ट्टा] करना । अहिट्टए  
 (दस ६, ४, २) ।

अहिट्टग वि [अधिष्टक] अविष्ठाता, विवायक,  
 कारक,

'नासदीपलिअन्नु न निसिजा न पीटए ।  
 निग्गयापडिलेहाए, बुद्धवुत्तमहिट्टगा'  
 (दस ६, ५५) ।

अहिट्टण देखो अहिट्टाण (पचा ७, ३३) ।

अहिट्टा सक [अधि + ट्टा] १ ऊपर चलना ।  
 २ आश्रय लेना । ३ रहना, निवास करना ।  
 ४ शासन करना । ५ करना । ६ हरना । ७

आक्रमण करना । ८ ऊपर चढ़ बैठना । ९  
 बश करना । अहिट्टेइ (निव्व ५), 'ता अहि-  
 ट्टेहि इमं रज्ज' (स २०४) । अहिट्टेवा (पि  
 २५२, ४६६) । वक् अहिट्टत (निव्व ५) ।

कक् अहिट्टिज्जमाण (ठा ४, १) । सक-  
 अहिट्टेइत्ता (निव्व १२) । हेक् अहिट्टित्ताए  
 (वृह ३) ।

अहिट्टाण न [अधिष्ठान] १ वैठना (निचू ५) । २ आश्रयण (सूत्र १, २, ३) । ३ मालिक बनना (आचा) । ४ स्थान, आश्रय (स ४६६) ।  
 अहिट्टायग वि [अधिष्ठायक] श्रव्यस्त, श्रवि-  
 पति (कुप्र २१६) ।  
 अहिट्टावण न [अधिष्ठापन] ऊपर-रखना (निचू ५) ।  
 अहिट्टिय वि [अधिष्ठित] १ श्रव्यासित (राया १, १४) । २ श्रवीन किया हुआ (राया १, १४) । ३ श्रास्त्रान्त, श्राविष्ट (ठा ५, २) ।  
 अहिटाण न [अधिष्ठान] श्रपान-प्रदेश (पव १३५) ।  
 अहिट्टय वि [दे-अभिद्रुत] पीडित, 'अहिट्टय पीडिअं परद्ध च' (पात्र) ।  
 अहिणद देखो अभिणंद । वक्क अहिणद-  
 माण (पचम ११, १२०) कवक्क अहिणं-  
 दिज्जमाण, अहिणंदीअमाण (नाट. पि ५६३) ।  
 अहिणंदण देखो अभिणदण (पचम २०, ३०, भवि) ।  
 अहिणंदि वि [अभिनन्दिन्] श्रानन्द मानने वाला (स ६७७) ।  
 अहिणदिय देखो अभिणंदिय (पचम ८, १२३, स १४) ।  
 अहिणय देखो अभिणय (कप्पू, नरा) ।  
 अहिणव पु [अभिनव] १ सेतुवन्व काव्य का कर्ता राजा प्रवरसेन (से १, ६) । २ वि नूतन, नया (राया १, १, सुपा ३३०) ।  
 अहिणवेमाण देखो अहिणी ।  
 अहिणवेमाण देखो अहिणु ।  
 अहिणाण देखो अहिण्णाण (भवि) ।  
 अहिणिवोह पुं [अभिनिवोध] ज्ञान-विशेष, मतिज्ञान (परण २६) ।  
 अहिणिवस सक [अभिनि + वस] वसना, रहना । वक्क अहिणिवसमाण (मुद्रा २३१) ।  
 अहिणिविष्ट वि [अभिनिविष्ट] श्राग्रह-ग्रस्त (स २७३) ।  
 अहिणिवेस पुं [अभिनिवेश] श्राग्रह, हठ (स ६२३, श्रभि ६५) ।  
 अहिणिवेसि वि [अभिनिवेशिन्] श्राग्रही (पि ४०५) ।

अहिणी स्त्री [अहि] नागिन (वजा ११४) ।  
 अहिणी देखो अभिणी वक्क अहिणवेमाण (सुर ३, १५०) ।  
 अहिणील वि [अभिनील] हरा, हरा रंग वाला (गरुड) ।  
 अहिणु सक [अभि + नु] स्तुति करना, प्रशंसना । वक्क अहिणवेमाण (सुर ३, ७७) ।  
 अहिण्ण वि [अभिन्न] भेदरहित, श्रपृथग्भूत (गा २६५, ३८०) ।  
 अहिण्णाण न [अभिज्ञान] चिह्न, निशानी (श्रभि १३) ।  
 अहिण्णु वि [अभिज्ञ] निपुण, ज्ञाता (हे १, ५६) ।  
 अहित्त वि [अभितप्त] तापित, सतापित (उत्त २) ।  
 अहित्ता देखो अहिज्ज = अघि + इ ।  
 अहिदायग वि [अभिदायक] देने वाला, दाता (सुपा ५४) ।  
 अहिदेवया स्त्री [अधिदेवता] श्रधिष्ठाता देव (सुपा ६०, कप्पू) ।  
 अहिद्व मक [अभि + द्] हैरान करना । अहिद्वति (स ३६३) । भवि अहिद्विस्सइ (स ३६६) ।  
 अहिद्वदुय वि [अभिद्रुत] हैरान किया हुआ (स ५१४) ।  
 अहिघाव सक [अभि + घाव] दौडना, सामने दौड कर जाना । वक्क अहिघावत (से १३, २६) ।  
 अहिनाण } देखो अहिण्णाण (श्रा १६, सुपा  
 अहिन्नाण } २५०) ।  
 अहिनिवेस देखो अहिणिवेस (स १२५) ।  
 अहिपच्चुअ सक [अहि-] ग्रहण करना । अहिपच्चुअइ (हे ४, २०६, पड्) । अहि-  
 पच्चुअति (कुमा) ।  
 अहिपच्चुअ सक [आ + गम्] श्राना । अहि-  
 पच्चुअइ (हे ४, १६३) ।  
 अहिपच्चुअइ वि [आगत] श्रायात (कुमा) ।  
 अहिपच्चुअइ न [दे] श्रनुगमन, श्रनुसरण (दे १, ४६) ।  
 अहिपड मक [अभि + पत्] सामने श्राना । अहिपडति (पव १०६) ।  
 अहिपास सक [अधि + दा] १ अधिक

देखना । २ समान ह्य से देखना । अहिपासए (सूत्र १, २, ३, १२) ।  
 अहिप्पाय देखो अभिप्पाय (महा, कप्पू) ।  
 अहिप्पेय देखो अभिप्पेय (उपे १०३१ टी-  
 म ३४) ।  
 अहिभव देखो अभिभव (गरुड) ।  
 अहिमजु पु [अभिमन्थु] श्रजुंन के एक पुत्र का नाम (कुमा) ।  
 अहिमतण वि [अभिमन्त्रण] मन्त्रित करना, मन्त्र से संस्कारना (भवि) ।  
 अहिमंतिअ वि [अभिमन्त्रित] मन्त्र से संस्कृत (महा) ।  
 अहिमच्चु } देखो अहिमजु (कुमा, पड्) ।  
 अहिमण्णु }  
 अहिमन्नु }  
 अहिमय वि [अभिमत] संमत, इष्ट (स २००) ।  
 अहिमयर पु [अहिमकर] सूर्य, रवि (पात्र) ।  
 अहिमर पुं [अभिमर] वनादि के लोभ से दूसरे को मारने का साहस करने वाला (सुर १, ६८) । २ गजादिघातक (विसे १७६४) ।  
 अहिमाण पु [अभिमान] गर्व, श्रहकार (प्रासू १७, सण) ।  
 अहिमाणि वि [अभिमानिन्] श्रभिमानी, गर्विष्ठ (स ४३१) ।  
 अहिमार पु [अभिमार] वृक्ष-विशेष, 'एगं अहिमारदाअ श्रग्गी' (उत्तनि ३) ।  
 अहिमास } पु [अधिमास, क] अधिक  
 अहिमासग } मास (श्राव १, निचू २०) ।  
 अहिमुह वि [अभिमुख] संमुख, सामने रहा हुआ (से १, ४४, पचम ८, १६७, गरुड) ।  
 अहिमुहिहूअ } वि [अभिमुखीभूत] सामने  
 अहिमुदीहूअ } श्राया हुआ (पचम १२, १०५ ४५, ६) ।  
 अहिय वि [अधिक] १ ज्यादा, विशेष (श्रीप; जी २७, स्वप्न ४०) । २ क्रि वि बहुत, श्रत्यन्त (महा) ।  
 अहिय वि [अहित] श्रहितकर, शत्रु, दुश्मन (महा, सुपा ६६) ।  
 अहिय वि [अधीत] पठित, श्रम्यस्त, 'अहिय-  
 सुयो पडिवजिय एगल्लविहारपडिम सो' (सुर ४, १५४) ।

अहिचा क्री [अधिका] भगवान् श्रीनमिनाय  
नी प्रकृत शिष्या (सम १५२) ।  
अहियाइ देवो अहिजाइ (पङ्) ।  
अहियाय देवो अहिजाय (पात्र) ।  
अहियार पु [अभिचार] शत्रु के वव के लिए  
किया जाता मन्त्रादि-प्रयोग (गण्ड) ।  
अहियार देवो अहियार (स ५८३, पात्र,  
मुद्रा २६६, मट्टि ७ टो; भवि, दे ७, ३२) ।  
अहियारि देवो अहियारि (दि ६, १०८) ।  
अहियाम सव [अधि + आस्, अधि +  
सह] सहन करना, कष्टों को शान्ति से  
भेनना । अहियाम्ण्ड, अहियाम्णए, अहियाम्ण्ड  
(उव, महा) । कर्म अहियाम्ण्डजति (भग) ।  
वह अहियाम्णमाण (शाचा) । सव अहि-  
यासित्ता, अहियासेत्तु (नूम १, ३, ४,  
शाचा) हेँ अहियाम्णित्तए (शाचा) । क  
अहियासियन्व (उव ५४३) ।  
अहियाम वि [अध्यास, अधिसह] सहिष्णु  
(वृह १) ।  
अहियासण न [अध्यासन अधिमहन]  
सहन करना (उव ५३६, स १६२) ।  
अहियामण न [अधिकाराण] अधिक भोजन,  
अजीर्ण (ठा ६) ।  
अहियासिय वि [अध्यासित, अधिपोठ]  
सहन किया हुआ (शाचा) ।  
अहिर पु [आभीर] अहीर, गोवाना (ग  
८११) ।  
अहिरम देवो अभिरम । वह अहिरमंत  
(समु १५४) ।  
अहिरम अक [अभि + रम्] क्रीडा करना,  
नमो करना । अहिरमदि (श्री) (नाट) । हेँ  
अभिरमिट्ट (श्री) (नाट) ।  
अहिरम्म वि [अभिरम्य] मुन्दर, मनोहर  
(भवि) ।  
अहिराम वि [अभिराम] मुन्दर, मनोहर  
(पात्र) ।  
अहिरामिण वि [अभिरामिन्] आनन्द देने  
वाला (सर) ।  
अहिराय पु [अधिराज] १ राजा (वृह ३) ।  
२ स्वामी, पति (सर) ।  
अहिराय न [अधिराज्य] राज्य, प्रभुत्व  
(सट्टि ७) ।

अहिरिअ देवो अहिरिअ (पिंड ६३१) ।  
अहिरिअ वि [अहीर] निर्मल, देशरम (हि २,  
१०४) ।  
अहिरिअ वि [दे] निस्तेज, फीका (दि १,  
२७) ।  
अहिरिमाण वि [दे अहारिन, अहीमनस्]  
१ अमनोहर, मन को प्रतिकूल । २ अलजा-  
कारक, 'एगयरे अन्नयरे अभिन्नाय तित्तल-  
माणे परिख्वए जे च हितो, जे य अहिरिमाणा'  
(शाचा १, ६, २) ।  
अहिरिस्व वि [अभिरूप] १ मुन्दर, मनोहर  
(अभि २११) । २ अस्त्य, योग्य, विक्र ३८) ।  
अहिरिम सव [पृ] पूरा करना, पूजित करना ।  
अहिरिमड (हि ४, १६६) ।  
अहिरिडअ वि [दे] पूर्ण (पङ्) ।  
अहिरिहण न [अधिरिहण] ऊपर चढ़ना,  
आरोहण (मा ४०) ।  
अहिरिहि वि [अधिरिहिन] ऊपर चढ़ने  
वाला (अभि १७०) ।  
अहिरिहिणी क्री [अधिरिहिणी] नि श्रेणी,  
सीढी (दि ८, २६) ।  
अहिल वि [अग्निल] सवल सव (गण्ड,  
रमा) ।  
अहिलप । सव [अडत्त] चाहना, अभि-  
अहिलय } नाय करना । अहिलनड, अहि-  
अहिलम्भ } लषड (हि ४, १६२), 'अहिल-  
न्वति मुअत्ति अ रड्वावार विलानिणीहिअ-  
आड' (से १०, ५७) ।  
अहिलक्ख वि [अभिलक्ष्य] अनुमान से  
जानने योग्य (गण्ड) ।  
अहिलय सव [अभि - लप्] समापण  
करना, कहना । कवक अहिलप्पमाण (स  
८४) ।  
अहिलम सव [अभि - लप्] अभिनाय  
करना, चाहना । अहिलनड (महा) । वह  
अहिलसंत (नाट) ।  
अहिलसिय वि [अभिलपित] वाञ्छित (नुर  
४, २४८) ।  
अहिलमिर वि [अभिलपिन्] अभिनायी,  
इच्छुक (दि ६, ५८) ।  
अहिलण न [अभिलान] मुव का वन्दन  
विशेष (साया १, १०) ।

अहिलाव पु [अभिलाप] शब्द, आवाज (ठा  
२, ३) ।  
अहिलास पु [अभिलाप] इच्छा, वाञ्छा,  
चाह (गण्ड) ।  
अहिलासि वि [अभिलापिन] चाहनेवाला  
(नाट) ।  
अहिलिअ न [दे] १ परानव । २ क्रोध, गुन्हा  
(दि १, ९७) ।  
अहिलिह सव [अभि + लिख्] १ चिन्ता  
करना । २ लिखना । अहिलिहति (मुद्रा  
१०८) । चंक्र, अहिलिहिय (वेणी २५) ।  
अहिलोयण न [अभिलोक्क] जंचा स्थान  
(पणह २, ४) ।  
अहिलोल वि [अभिलोल] चपन चञ्चन  
(गण्ड) ।  
अहिलोहिआ क्री [अभिलोभिका] लोचुपता,  
तृष्णा (से ३, ४७) ।  
अहिल वि [दे] वनवान, वनी (दि १, १०) ।  
अहिलिया क्री [अहिल्या] एक सती क्री  
(पणह १, ८) ।  
अहिव [अधिप] १ ऊपर, मुखिया (उप  
७२८ टो) । २ मालिक, स्वामी (गण्ड) ।  
३ राजा, भूष; 'डुडाहिवा दडपरा हवति'  
(गोय ८) ।  
अहिवड वि [अधिपति] ऊपर देखो (साया  
१, ८, गण्ड, नुर ६, ६२) ।  
अहिवजु देवो अहिमजु (पङ्) ।  
अहिवदिय वि [अभिवन्दित] नमन्कर (स  
६४१) ।  
अहिवजु देवो अहिमंजु (पङ्) ।  
अहिवड अक [अधि + पन्] क्षीण होना ।  
वह 'एव निन्दारे माणुनत्तणे जीविए अहि-  
वडत' (तडु ३३) ।  
अहिवड सव [अधि + पन्] शाना । वह  
अहिवडत (राज) ।  
अहिवड्ड देवो अभिवड्ड अहिवड्डामो  
(क्य) ।  
अहिवड्डि } क्री [अभिवृद्धि] उत्तर प्रोष्ठ-  
अहिवड्डि } पदा नकव का अविष्टाता देवता  
(मुव १०, १२, ज ७—पत्र ४६८) ।  
अहिवड्डिय वि [अभिवर्धित] बढ़ाया हुआ  
(स २७७) ।

अहिवण्ण वि [दे] पीला और लाल रंग वाला (दे १, ३३) ।

अनिवण्णु } देखो अहिमजु (पङ्; कुमा ।  
अहिवण्णु }

अहिवट्टी स्त्री [अहिवल्ली] नाग-वल्ली (सिदि ८७) ।

अहिवस सक [अधि + वस्] निवास करना, रहना । वक्क अहिवसत (स २०८) ।

अहिविद्वय वि [अभिवादि] अग्निन्दित (स ३१४) ।

अहिवायण देखो अभिवायण (मवि) ।

अहिवाल वि [अधिपाल] पालक, रक्षक (मवि) ।

अहिवास पुं [अधिवास] वासना, सम्कार (दे ७, ८७) ।

अहिवासण न [अधिवासन] सक्काराधान (पचा ८) ।

अहिवासि वि [अधिवासिन्] निवासी (चिद्व ६८७) ।

अहिवासिअ वि [अधिवासित] सजाया हुआ, तप्यार किया हुआ (दस ३, १ दो) ।

अहिविण्णा स्त्री [दे] कृत-सापल्या स्त्री, उप-पत्नी (दे १, २५) ।

अहिसका स्त्री [अभिगङ्का] भ्रम, सदेह (पटम ४२, २१) ।

अहिसंका स्त्री [अभिगङ्का] भय, डर (सूय १, १२, १७) ।

अहिमजमण न [अभिसंयमन] नियन्त्रण (गडड) ।

अहिसधारण न [अभिसधारण] अभिप्राय (पचा ६, ३६) ।

अहिमधि पुत्री [अभिसधि] अभिप्राय, आग्रय (पएह १, २, स ४६३) ।

अहिसधि पु [दे] वारंवार (दे १, ३२) ।

अहिसक्कण पुन [अभिप्वक्कण] समुच्च गमन (पव २) ।

अहिसर सक [अभि + स्] १ प्रवेश करना । २ अपने दयित—प्रिय के पास जाना । प्रयो, कर्म अभिमारीमदि (शौ) (नाट) । हेक्क अभिसारिट्टु (शौ) (नाट) ।

अहिसरण न [अभिसरण] प्रिय के समीप गमन (स ५३३) ।

अहिसरिअ वि [अभिस्त] १ प्रिय के समीप गन । २ प्रविष्ट (भावम) ।

अहिसहन न [अविसहन] सहन करना (ठा ६) ।

अहिसाअ देखो अक्कम = ग्रा + कम् । ग्रहि-नाग्रइ (प्राक् ७३) ।

अहिसाम वि [अभिगाम] काला, कृष्ण वर्ण वाला (गडड) ।

अहिसाय वि [दे] पूर्ण, पूरा (दे १, २०) ।

अहिसारण न [अभिसारण] १ आनयन (सि १०, ६२) । २ पति के लिए संकेत स्थान पर जाना (गडड) ।

अहिसारिअ वि [अभिसारित] आनीत (सि १, १३) ।

अहिसारिआ स्त्री [अभिसारिका] नायक को मिलने के लिए संकेत स्थान पर जानेवाली स्त्री (कुमा) ।

अहिसिअ न [दे] १ अग्निष्ट ग्रह की आशका से खेद करना—रोना (दे १, ३०) । २ वि. अग्निष्ट ग्रह से नयनीत (पङ्) ।

अहिसिच देखो अभिसिच । अहिसिचइ (महा) । चक्क अहिसिचिऊण (स ११६) ।

अहिसिचण न [अभिषेचन] अभिषेक (मम १२५) ।

अहिसिचत देखो अभिसिचत (महा; सुर ८, ११६) ।

अहिसेअ देखो अभिसेअ (सुपा ३७, नाट) ।

अहिसोढ वि [अधिसोढ] सहन किया हुआ (उप १४७ दो) ।

अहिस्सग पु [अभिष्वङ्ग] आशक्ति (नाट) ।

अहिय वि [अभिहत] १ आघात-प्राप्त (सि ५, ७७) । २ मारित, व्यापादित (सि १४, १२) ।

अहिहर सक [अभि + ह] १ लेना । २ उठाना । ३ अक शोभना, विराजना । ४ प्रतिभास होना, लगना,

‘वीयानरणा अकयएणमंडणा  
अहिहरति रमणीभो ।

मुएणाओ व कुनुमफलतरम्मि  
सहयारवल्लीओ ।

इह हि हलिदाह्वदविहसा-  
मत्तीगडमडलानीर्ण ।

फलमसअलपरिणामावलवि

अहिहरइ च्चुयाण' (गडड) ।

अहिहर न [दे] १ देवकुल, पुराना देवमन्दिर । २ बल्मीक (दे १, ५७) ।

अहिहव सक [अभि + भू] परामव करना, जीतना । अहिहवति (स १६८) कर्म. अहिह वीयति (स ६६८) ।

अहिहाण न [दे अभिधान] वर्णन, प्रशंसा (दे १, २१) ।

अहिहाण देखो अभिहाण (स १६५, गडड-नुर ३, २५, पाग्र) ।

अहिहू देखो अहिहव । कवक्क अहिहूअमाण (अभि ३७) ।

अहिहूअ वि [अभिभूत] पराभूत, परास्त (दे १, १५८) ।

अही सक [अधि + इ] पढ़ना । कर्म अही-यइ (विसे ३१६६) ।

अही स्त्री [अही] नागिन, सर्पिणी (जीव २) ।

अहीकरण न [अधिकरण] कलह, झगडा (निचू १०) ।

अहीगार देखो अहिगार, 'सेसेमु अहीगारो, उवगरणसरिसुक्खेसु' (आचानि २०४) ।

अहीण वि [अधीन] धायत्त, अधीन (पएह २, ४) ।

अहीण वि [अ-हीन] अन्वून, पूर्ण (विपा १, १; उवा) ।

अहीय देखो अहिय = अधिक (पव १६४) ।

अहीय वि [अधीत] पठित, अभ्यस्त; विया अहीया ए भवति ताए' (उत्त १५, १२-राया १, १४, स ७८) ।

अहीराग वि [अहीरक] तन्तुरहित (फलादि) (जी १२) ।

अहीरु वि [अभीरु] निडर, निर्भीक (मवि) ।

अहीलास देखो अहिलास; 'दिहम्मि अहिलासो' (तंडु ४१) ।

अहीसर पु [अवीश्वर] परमेश्वर (प्रामा) ।

अहुआसेय वि [अहुताशेय] अग्नि के अयोग्य (गडड) ।

अहुणा अ [अधुना] अभी, इस समय, आज-कल (ठा ३, ३, नाट) ।

अहुणि (वि) देखो अहुणा (प्राक् १२७) ।

अहुलण वि [अमार्जक] अनाशक (कुमा) ।



अहुह वि [अफुल्ल] अविक्कमित (कुमा) ।  
अहुवन्त वक्क [अभवन्] न होता हुआ  
(कुमा) ।

अहूण देखो अहीण = अहीन (कुमा) ।

अहूव वि [अभूत] जो न हुआ हो °पुठ्व  
वि [°पूर्व] जो पहले कभी न हुआ हो (कुमा) ।

अहे अ [अधस्] नीचे (आचा) । °कम्म  
न [कर्मन्] आवाकर्म, भिन्ना का एक दोष  
(पिड) । °काय पु [°काय] शरीर का नीचला  
हिन्सा (सूत्र १, ४ १) । °चर वि [°चर]  
विल आदि में रहने वाले सर्प वगैरह जन्तु  
(आचा) । °तारग पु [°तारक] पिशाच-  
विशेष (परण १) । °दिसा स्त्री [°दिकू]  
नीचे की दिशा (आचा) । °लोग पु [°लोक]  
पाताल-नोक (ठा २, २) । °वाय पु [°वात]  
नीचे बहनेवाला वायु (परण १) । २ अगन-  
वायु, पर्दन (आवम) । °विप्रड वि [°विकट]  
मित्यादिरहित स्वान, खुला स्वान, 'ससि  
भगव अपडिन्ने अहेवियडे अहियात्तए दविण'  
(आचा) । °सत्तमा स्त्री [°सप्तमी] मातृवीं  
या अन्तिम नरकभूमि (सम ४१, एयाया १,  
१६, १६) । देखो अहो = अग्रस् ।

अहे देखो अह = अग्र (मग १, ६) ।

अहेउ पुं [अहेतु] १ नत्य हेतु का विरोधी,  
हेत्वाभास (ठा ५, १) । २ वि कारणरहित,  
नित्य (सूत्र १, १, १) । °वाय पुं [°वाट]  
आगमवाद, जिसमें तर्क—हेतु को छोड़कर

केवल शास्त्र ही प्रमाण माना जाना हो ऐसा  
वाद (सम्म १४०) ।

अहेउय वि [अहेतुक] हेतुवर्जित, निष्कारण  
(पउम ६३, ४) ।

अहेकम्म पुन [अध जर्मन्] १ अश्रवणति में  
ले जाने वाला कर्म । २ भिन्ना का आनाकर्म  
दोष (पिड ६६) ।

अहेसणिज्ज वि [यथैपणीय] संस्काररहित,  
कोरा, 'अहेसणिजाइ वयाइ जाएवा' (आचा) ।  
अहेसर पु [अहरीश्वर] सूर्य, नूरज (महा) ।

अहो देखो अह = अग्रस् (सम ३६, ठा २, २  
३, १, मग, एयाया १, १, पउम १०२ ८१,  
आव ३) ।

°करण न [°करण] कलह, काज (निहू  
१०) । °गह स्त्री [°गति] १ नरक या तिर्यञ्च-  
योनि । २ अवनति (पउम ८०, ४६) । °गामि  
वि [°गामिन्] दुर्गति में जानेवाला (सम  
१५३, आ ३३) । °तरण न [°तरण] कलह,  
झगडा (निहू १०) । °मुह वि [°मुख]  
अवोमुख, अवनत मुख, लजित (सुर २, १५८,  
३, १३५, सुपा २४२) । °लोइय वि  
[°लौकिक] पाताल लोक से सम्बन्ध रखने-  
वाला (सम १४२) । °हि वि [°अवधि]  
१ नीचे दर्जा का अत्रविज्ञान वाला (राय) ।  
२ पुत्री नीचे दर्जा का अत्रविज्ञान, अत्र-  
विज्ञान का एक भेद (ठा २, २) ।

अहो अ [अहनि] दिवस में, 'अहो य रामो

य मिवाभिनासिणो' (पउम ३१; १०८, परह  
२, १) ।

अहो अ [अहो] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ विस्मय, आश्चर्य । २ खेद, शोक । ३ आम-  
न्दण, सन्धोषन । ४ वितर्क । ५ प्रपंसा । ६  
अभूया, द्वेष (हे २, २१७, आचा, गउठ) ।  
°दाण न [°दान] आश्चर्य-कारक दान (उत्त  
२, कप्प) । °पुरिसिगा, °पुरिसिया स्त्री  
[°पुरुषिका] गर्व, अभिमान (स १२३,  
२८८) । °विहार पु [°विहार] संयम का  
आश्चर्यजनक अनुष्ठान (आचा) ।

अहो अ [अहो] दीनता-सूचक अव्यय (अणु  
१६) ।

अहो पुन [अहन्] दिन, दिवस (पिण) ।  
°णिस, निम, निसि न [°निश] रात और  
दिन दिन-रात, 'णिरए रोइयाण अहोरिण्त  
पच्चमाणाण' (सूत्र १, ५, १ आ ५०), 'अतो  
अहोनिमिन्स उ' (विसे ८७३) । °रत्त पु  
[°रात्र] १ दिन और रात्रि परिमित काल,  
आठ प्रहर (ठा २, ४), 'तिणिएण अहोरत्ता  
पुण न खामिया कयतेण' (पउम ४३, ३१) ।  
२ चार प्रहर का समय (जो २) । °राइया  
स्त्री [°रात्रिकी] ध्यानप्रधान अनुष्ठान विशेष  
(पचा १८, आव ४, मम २१) । °राइदिय  
न [°रात्रिन्द्रिय] दिनरात (मग, ओप) ।  
अहोरण न [°दे] उत्तरीय वस्त्र, चारर (दि १,  
२५, ता ७७१) ।

इअ तिरिपाइअसहमहणवे अयाराइनहसकनणो  
एाम पठमो तरगो समत्तो ।



## आ

आ पुं [आ] १ प्राकृत वर्णमाला का द्वितीय  
स्वर-वर्ण (प्रामा) । इन अर्थों का सूचक  
अव्यय—२ अ : मर्यादा, सीमा; 'आस-  
मुद्' (गउठ, विसे ८७४) । ३ अतिविधि,  
व्याप्ति, 'आमूलसिरं फलिहयमाओ' (कुमा,  
विसे ८७४) । ४ घोडापन, अल्पता,

'आणीनककण्हतुरं वरण' (गउठ), 'आअव'  
(से ६, ३१, विसे १२३५) । ५ समन्तात्,  
चारों ओर, 'अणुकडनमा विवइएणसरस-  
कवरोविलधियत्तम्मि' (गउठ, विसे ८७५) ।  
६ अधिकता, विशेषता, 'आदीण' (सूत्र  
१, ५) । ७ न्मरण, याद (पड्) । ८ विस्मय,

आश्चर्य (ठा ५) । ६-१० त्रिपाशब्द के योग  
में अर्थविस्तृति और विपर्यय, 'आहहह',  
'आगच्छत' (पड्, कुमा) । ११ वाक्य की  
शोभा के लिए भी इसका प्रयोग होता है  
(एयाया १, २) । १२ पादपूति में प्रयुक्त किया  
जाता अव्यय (पड् २, १, ७६) ।

आ अ [आ] नोचे, अघ (राय ३५, ३६) ।  
आ अ [आस्] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ खेद (गा ६२६) । २ दुःख । ३ गुन्हा,  
क्रोध (कप्प) ।

आ सक [या] जाना । 'अन्वो ए अमि छेत्'  
(गा ८२१) ।

आअ वि [दे] १ अत्यन्त, बहुत । २ दीर्घ,  
लम्बा । ३ विपम, कठिन । ४ न लोह,  
लोहा । ५ मुसल, मूपल (दे १, ७३) ।

आअ वि [आगत] आया हुआ, 'पत्यति  
आग्रोसा' (से १२, ६८, कुमा) ।

आअअ वि [आगत] आया हुआ (से ३, ४,  
१२, १८, गा ३०१) ।

आअअ वि [आयत] लम्बा, विस्तीर्ण (से  
११, ११),

'मरगयसूईविद्ध व मोत्तिअ पिअइ आग्रअग्गीवो ।  
मोरो पाउसअल्ले तएगगलग्ग उअग्रविद्ध'  
(गा ३६४) ।

आअअअक [कृप्] १ स्वीचना । २ जोतना,  
चाम करना । ३ रेखा करना । आअअअइ (पड्) ।

आअतव्व देखो आगम = आ + गम् ।

आअतुअ देखो आगतुय (स्वप्न २०, अमि  
१२१) ।

आअपिअ देखो आकपिय (से १०, ५१) ।

आअंवि वि [आताम्र] घोडा लाल (मे ६, ३१,  
सूर ३, ११०) ।

आअव पु [कादम्ब] हंस, पक्षि-विशेष (से  
६, ३१) ।

आअक्ख मक [आ + चच्] कहना,  
बोलना, उपदेश करना । आअक्खाहि (भग) ।  
कर्म आअक्खीअदि (शौ) (नाट) । भूक. आअ-  
क्खिद (शौ) (नाट) ।

आअच्छ देखो आगच्छ । आअच्छइ (पड्) ।  
सक आअच्छिअ, आअच्छिऊण (नाट,  
पि ५८१, ५८४) ।

आअहु अक [दे] परवश होकर चलना ।  
आअहुइ (दे १, ६६) ।

आअहु अक [व्या + ष्ट] व्यापृत होता, काम  
में लगना । आअहुइ (सण, पड्) । आअहुइइ  
(हे ४, ८१) ।

आअड्डिअ वि [दे] परवशचलित, दूनरे की  
प्रेरणा से चला हुआ (दे १, ६८) ।

आअड्डिअ वि [व्यापृत] कांयं मे लगा हुआ  
(कुमा) ।

आअण्णण देखो आयण्णण (गा ६५६) ।

आअत्ति देखो आयइ (पिण) ।

आअद देखो आगय (प्राक् १२, सखि ६) ।

आअम देखो आगम (अशु ७, अमि १८८,  
गा ४७६, स्वप्न ४८, मुद्रा ८३) ।

आअमण देखो आगमण (ने ३, २०, मुद्रा  
१८७) ।

आअर सक [आ + ट्] आदर करना, सत्कार  
करना । आअरइ (पड्) ।

आअर न [दे] १ उहल, उखल । २ कूचं  
(दे १, ७४) ।

आअल्ल पुं [दे] १ रोग, बीमारी (दे १, ७५,  
पाण) । २ वि चचल, चपल (दे १, ७५) ।  
देखो आयल्लया ।

आअल्लि } स्त्री [दे] झाडी, लताओं से निविड  
आअल्ली } प्रदेश (दे १, ६१) ।

आअव्व अक [वेप्] कांपना । आअव्वइ  
(पड्) ।

आआमि देखो आगामि (अमि ८१) ।

आआस देखो आयस (पड्) ।

आआसतअ [दे] देखो आयासतल (पड्) ।

आइ सक [अ + दा] ग्रहण करना, लेना ।  
आइएजा (सूत्र १, ७, २६) । आइयत्ति (भग) ।  
कर्म आइयइ (कम) । सक आइत्तूण,  
आयइत्ता, आइत्तु (आचा; सूत्र १, १२,  
पि ५७७) । प्रयो आइयावेंति (सूत्र २, १) ।  
क आइयव्व (कस) ।

आइ पु [आदि] १ प्रथम, पहला (सुर २,  
१३२) । २ वगैरह, प्रभृति (जी ३) । ३  
समीप, पास । ४ प्रकार, भेद । ५ अवयव,  
अंश । ६ प्रवान, मुख्य, 'इअ आसंसति निसीह ।  
सिहदत्ताइणो दिआ तुज्ज' (कुमा, सूत्र १,  
१५) । ७ उत्पत्ति (सम्म ६५) । ८ ससार,  
दुनया (सूत्र १, ७) । गंर वि [कर] १

आदि प्रवत्तं (सम १) । २ पुं भगवान्  
ऋषभदेव (पचम २८, ३६) । गुण पु [गुण]  
सहजानी गुण (आव ४) । गंहाह पुं [नाय]  
भगवान् ऋषभदेव (आवम) । तिरियर पुं  
[तीर्थर] भगवान् ऋषभदेव (एदि) ।  
देव पु [देव] भगवान् ऋषभदेव (सुर २,

१३२) । म पुं [म] प्रथम, आद्य, पहला  
(आव ५) । मूल न [मूल] मुख्य कारण  
(आचा) मोक्ख पुं [मोक्ख] संसार से  
छुटकारा, मोक्ष । २ शीघ्र ही मुक्त होने वाली  
आत्मा, 'इत्योओ जे ए सेवति आइमोक्खा  
हि ते जणा' (सुम १, ७) । राय पु [राज]  
भगवान् ऋषभदेव (ठा ६) । वराह पुं  
[वराह] कृष्ण, नारायण (से ७, २) ।

आइ वि [आदिन्] खानेवाला (पंचा १८,  
३६) ।

आइ स्त्री [आजि] सग्राम, लडाईं (सथा) ।

आइअंतिय देखो अच्चतिय (भग १२, ६) ।

आइ अ [दे] वाक्य की शोभा के लिए प्रयुक्त  
किया जाने वाला अव्यय (भग ३, २) ।

आइखगा } स्त्री [दे] १ देवता विशेष,  
आइखगिया } कर्ण-पिशाचिका देवी (पव  
आइखिणिया } २, ७३ टी—पत्र १८२, वृह  
१) । २ डोमिनी, चाडाली (वृह १) ।

आइंग न [दे] वाय-विशेष (पचम ३, ८७,  
६६, ६) ।

आइच देखो आयच । आइचइ (उवा) ।

आइच देखो अक्कम = आ + क्कम् । आइचइ  
(प्राक् ७३) ।

आइचवार पु [आदित्यवार] रविवार (कुप  
४११) ।

आइचिय वि [आदित्यिक] भादित्य-संबन्धी  
(सूत्रनि ८ टी) ।

आइइ देखो आअइ । आइइइ (हे ४, १८७) ।

आइक्ख सक [आ + चच्] कहना, उप-  
देश देना, बोलना, आइक्खइ (उवा) । वक्क  
आइक्खमाण (एया १, १२) । हेक्क आइ-  
क्खित्तए (उवा) ।

आइक्खग वि [आख्यायक] कहनेवाला,  
वक्ता (पएह २, ४) ।

आइक्खण न [आख्यान] कथन, उपदेश  
(वृह ३) ।

आइक्खिय वि [आख्यात] उक्त, उपदिष्ट  
(स ३२) ।

आइक्खिया स्त्री [आख्यायिका] १ वृत्तां,  
कहानी (एया १, १) । २ एक प्रकारकी  
मैली विद्या, जिससे चारुडालिनी भूत-काल प्रादि  
को परोक्ष वाते कहती है (ठा ६) ।

आइग वि [आविग] उद्विग्न, विग्न (पाण) ।

आइय सक [आ + डा] सूधना। आइयद, आइयघाइ (पद)। हेइ आइयिघउ (कुमा)।  
आइय अ [दे] कदाचित्त, कोटवार (परण १८—पत्र ४८५)।

आइय पु [आदित्य] १ सूर्य, सूरज, रवि (सम ५६)। २ नौकातिक देव-विशेष (राया १, ८)। ३ न देवविमान-विशेष। ४ पुं तन्निवासी देव (पत्र)। ५ वि आय, प्रथम (सुज २०)। ६ सूर्य चक्रवी, 'आइके रां माते' (सम ५६)। 'गड पु [गति] राजस वश के एक राजा का नाम (पत्रम ५, २६१)। 'जस पुं [जस] भरत चक्रवी का एक पुत्र, जिसने इन्द्राहु वश की शाखास्य सूर्यवश की कृत्यति हुई थी (पत्रम ५, ३, नुर २, १३४)। 'पम न [प्रभ] इस नाम का एक नगर (पत्रम ५, ८०)। 'पीठ न [पीठ] भगवान् ऋषभदेव का एक मूर्तिचिह्न—पादपीठ (आवम)। 'रकर पु [रक्त] इस नाम का लङ्का का एक राजपुत्र (पत्रम ५, १६६)। 'रय पु [रजस्] वानर वश का एक विधावर राजा (पत्रम ८ २३४)।

आइय देवो आण (नव १५)।

आइयमाण वक्र [आर्त्तिक्रियमाण] आर्त्त किया जाता, भीजाया जाता (आचा)।

आइयमाण देवो आडा = आ + द।

आइय वि [आदिष्ट] १ उक्त, उपदिष्ट (सुर ४, १०१)। २ विवक्षित (सम्म ३८)।

आइय वि [आविष्ट] अविष्टित, आयित (कस)।

आइयि वी [आदिष्टि] धारणा (ठा ७)।

आइयि वी [आत्मदिष्टि] आत्मा की शक्ति, आत्मीय सामर्थ्य (मग १०, ३)।

आइयि वी [आत्मदिष्टि] आत्मीय शक्ति-सपत्र (मग १०, ३)।

आइयि वी [आदिष्ट] खोचा हुआ (हम्मोर १७)।

आइयण देवो आइयन = (द) (तदु २०)।

आइयण देवो आइयन (श्रीप, मग ७, ८, हे ३, १३४)।

आइय वि [आदीप्त] घोडा प्रकाशित—ज्वलित (राया १, १)।

आइय वि [आयत्त] अधीन, वशीभूत; 'तुज्म निरो जा परन्त आइयत' (जीवा १०)।

आइयु वि [आदायु] पहण करने वाला (ठा ७)।

आइयूण देवो आइ = आ + दा।

आइय न [आतिथ्य] अतिथि-सत्कार (प्राष्ठ २१)।

आइयि वी [आवृत्ति] आकार (प्राप्र, स्वप्न २०)।

आइय वि [आविद्ध] १ प्रेरित (से ७, १०)। २ स्पष्ट, दृष्टा हुआ (नि ३, ३५)। ३ पहना हुआ, परिहित (आक ३८)।

आइय वि [आदिग्य] व्याप्त (राया १, १)।

आइय वि [आकीर्ण] १ व्याप्त, भरा हुआ (सुर १, ४८, ३, ७१)। २ पु वक्र दायक कल्पवृक्ष (ठा १०)।

आइय वि [आकीर्ण] आचरित, विहित (आचा, चैत्य ४६)।

आइय वि [आदीर्ण] उद्विग्न, खिन्न, 'आइ-आइ पियराइ तोए पुच्छति दिव्व-देवन्' (सुपा ५६७)।

आइय पु [दे] जात्यश्व, कुलीन घोडा (परइ १, ४)।

आइयण न [दे] १ आटा (गा १६६, दे १, ७८) २ घर की शोभा के लिए जो चूना आदि की सफेदी दी जाती है वह। ३ चावल के आटा का दूब। ४ घर का मण्डन—सूपण (दे १, ७८)।

आइय (अप) वि [आयात] आया हुआ (भवि)।

आइय वि [आचित] १ सचित, एकत्रीकृत। २ व्याप्त, आकीर्ण। ३ ग्रथित, गुम्फित (कम्प, श्रीप)।

आइय वि [आहत] आदरप्राप्त (कम्प)।

आइयण न [आदान] ग्रहण, उपादान (परइ १, ३)।

आइयणया वी [आदान] ग्रहण, उपादान (ठा २, १)।

आइयि देवो आयरिय = आचार्य (हे १, ७३)।

आइय वि [आविल] मलिन, कतुप, अन्वच्छ (परइ १, ३)।

आइय } वि [आदिम] प्रथम, पहला  
आइयि } (सम १०६, मग)। 'आइल्लियानु तिनु लेजानु' (परण १७, विसे २६२४)।

आइयहिअ पुं [आतिवाहिक] देव-विशेष, जो मृत जीव को दूसरे जन्म में ले जाने के लिए नियुक्त है।

'काहे अमाणवता अग्गिमुहा,

आइयहिआ तव पुरिसा।

अइलवेहिंति मम अच्युआ।

तमगहणुनिअणयरकतार'

(अच्यु ८५)।

आइयहिअ पु [आतिवाहिक] मार्गदर्शक (वासुदेवहिंडी पत्र १५)।

आइय सक [आ + दिश] आदेश करना, हुकुम करना, फरमाना। आइयह (पि ४७१)। वक्र. आइयसत (सुर १६, ६३)।

आइयण वि [दे] उज्जित, परित्यक्त (दे १, ७१)।

आइय वि [आदीन] १ अतिदीन, बहुत गरीब (सुम १, ५)। २ न दूषित भिक्षा (सुम १, १०)।

आइयण पु [दे] जातिमान् अश्व, कुलीन घोडा (राया १, १७)।

आइयण } न [आजिन, क] १ चमडे का बना  
आइयण } हुआ वक्र (राया १, १, आचा)।

१ पु द्वीप-विशेष। २ समुद्र विशेष (जीव ३)।

'भट्ट पु [भद्र] आजिन-द्वीप का अविष्ठाता

देव (जीव ३)। 'महाभद्र पुं [महाभद्र]

देवो पूर्वोक्त अर्थ (जीव ३)। 'महावर पुं

[महावर] आजिन और आजिनवर नामक

समुद्र का अविष्ठाता देव (जीव ३)। 'वर पुं

[वर] १ द्वीप-विशेष। २ समुद्र-विशेष।

३ आजिन और आजिनवर समुद्र का अविष्ठाता

देव (जीव ३)। 'वरभद्र पु [वरभद्र]

आजिनवर्द्धीप का अविष्ठाता देव (जीव ३)।

'वरमहाभद्र पुं [वरमहाभद्र] देवो

अनन्तर उक्त अर्थ (जीव ३)। 'वरोभास पु

[वरावभास] १ द्वीप-विशेष। २ समुद्र-

विशेष (जीव ३)। 'वरोभासभद्र पुं

[वरावभासभद्र] उक्त द्वीप का अविष्ठातक

देव (जीव ३)। 'वरोभासमहाभद्र पु

[वरावभासमहाभद्र] देवो पूर्वोक्त अर्थ

(जीव ३) । °वरोभासमहावर पुं [वराव-  
भासमहावर] अजिनवराभास नामक समुद्र  
का अधिष्ठाता देव (जीव ३) । °वरोभासवर  
[°वरावभासवर] देखो अनन्तरोक्त अर्थ  
(जीव ३) ।

आईनीइ स्त्री [आदिनीति] सामरूप पहली  
राजनीति (सुपा ४६२) ।

आईय देखो आइ = श्रादि (जी ७, काल) ।

आइय वि [आतीत] १ विशेष-ज्ञात । २  
नंसार-प्राप्त, समार मे घूमनेवाला (श्राचा) ।

आईल पुन [आचील] पान का शूकना  
(पव) ।

आईच अक [आ + दीप्] चमकना । वक  
आईचमाग (महानि) ।

आईसर पु [आदीश्वर] भगवान् ऋषभदेव  
(सिरि ५५१) ।

आउ स्त्री [दे] १ पानी, जल (दे १, ६१) ।

२ इस नाम का एक नक्षत्र-देव (ठा २, ३) ।

°काय, °काय पु [°काय] जल का जीव  
(उप ६८५, परण १) । °काइय, °काइय  
पु [°कायिक] जल का जीव (परण १,  
भग २४, १३) । °जीव पु [°जीव] जल  
का जीव (सूत्र १, ११) । °वहुल वि  
[°वहुल] १ जन-प्रचुर । २ रत्नप्रमा पृथिवी  
का तृतीय कारण्ड (सम ८८) ।

आउ अ [दे] अथवा, या, 'आउ पलोहेइ मं  
अउउत्तेवेण कोइ अमाणुतो, आउ सचय  
चेव अउउत्तोत्ति' (म ३४६) ।

आउ } न [आयुप्] १ आयु, जीवन-  
आउअ } काल (कुमा, रयण १६) । २ उमर,  
वय (गा ३२१) । ३ आयु के कारणभूत कर्म-  
पुद्गल (ठा ८) । °काल पु [°काल] मरण,  
मृत्यु (श्राचा) । °करय पुं [°क्षय] मरण,  
मौत (विपा १, १०) । °क्लेम न [°क्षेम]  
आयु-पालन, जीवन (श्राचा) । °विज्ञा स्त्री  
[°विद्या] वैद्यकशास्त्र, चिकित्साशास्त्र,  
(श्राच) । °वेय पु [°वेद] वैद्यक, चिकित्सा-  
शास्त्र (विपा १, ७) ।

आउच सक [आ + कुञ्च्य] संकुचित  
करना, समेटना । सक आउचिवि (अप)  
(भवि) ।

आउचण न [आकुञ्चन] सकोच, गानसक्षेप  
(कस) ।

आउचणा स्त्री [आकुञ्चना] ऊपर देखो  
(धमं ३) ।

अउंचिअ वि [आकुञ्चित] १ संकुचित । २  
उठा कर वारण किया हुआ (से ६, १७) ।

आउजि वि [आकुञ्चिन्] १ संकुचनेवाला ।  
२ निश्चल (गरड) ।

आउट देखो आउट्ट = अत्रत्तंयु । आउटावेमि  
(राया १, ५) ।

आउट अक [आ + कुञ्च्य] संकोचना,  
प्रयो, सक आउटावित्तु (पव ५) ।

आउटण न [आकुण्टन] आवर्जन (पचा  
१७, १६) ।

आउटण न [आकुञ्चन] सकोच, गात्र-सक्षेप  
(हे १, १७७) ।

आउवालिय वि [दे] आप्लावित, हुआया  
हुआ, पानी आदि द्रवपदार्थ से व्याप्त (पाम) ।

आउक } देखो आउ = आयुप् (सुपा ६५५,  
आउग } भग ६, ३) ।

आउच्छ सक [आ + प्रच्छ] आज्ञा लेना,  
अनुज्ञा लेना । वक आउच्छत, आउच्छमाण  
(से १२, २१, ४७) । सक आउच्छिऊण,  
आउच्छिय (महा, सुपा ६१) ।

आउच्छण न [आप्रच्छन] आज्ञा, अनुज्ञा  
(गा ४७, ५००) ।

आउच्छणा स्त्री [आप्रच्छना] प्रश्न (पचा  
१२, २६) ।

आउच्छा स्त्री [आपृच्छा] आज्ञा (कुप्र  
१२४) ।

आउच्छिय वि [आपृष्ट] जिमकी आज्ञा ली  
गई हो वह (से १२, ६४) ।

आउज देखो आओज = आतोद्य (हे १,  
१५६) ।

आउज पुं [आवर्ज] १ समुख करना । २  
शुभ क्रिया (परण ३६) ।

आउज वि [आवर्ज्य] सम्मुख करने योग्य  
(श्रावम) ।

आउज वि [आयोज्य] जोडने योग्य, सम्बन्ध  
करने योग्य (विसे ७८ ३२६६) ।

आउजिय वि [आतोद्यिक] वायु वजानेवाला  
(सुपा १६६) ।

आउजिय वि [आयोगिक] उपयोगवाला,  
सावधान (भग २, ५) ।

आउजिय वि [आवर्जित] समुख किया  
हुआ (वरण ३६) ।

आउजिया स्त्री [आवर्जिका] क्रिया, ध्यापार  
(श्रावम) । °करण न [°करण] शुभ व्यापार-  
विशेष (परण ३६) ।

आउज्जीकरण न [आवर्जीकरण] शुभ  
व्यापार-विशेष (परण ३६) ।

आउट्ट सक [आ + वृत्] १ करना । २  
भूलाना । ३ व्यवस्था करना । ४ अक  
समुख होना, तत्पर होना । ५ निवृत्त होना ।  
६ घूमना, फिरना । आउट्टइ, आउट्टति (भग  
७, १, निवृ ३) । वक आउट्टत (सम २२) ।  
सक आउट्टिऊण (राज) । हेक आउट्टित्तए  
(कप्य) । प्रयो आउट्टावेमि (राया १, ५  
टी) ।

आउट्ट सक [आ + कुट्ट] छेदन करना,  
हिंसा करना । आउट्टामो (श्राचा) ।

आउट्ट वि [आवृत्त] १ निवृत्त, पीछे फिटा  
हुआ (उप ६६८), 'दणकए वाउट्टे जइ  
खिसति तद्ववि तहेव' (वृह ३) । २ भ्रामित,  
धुलाया हुआ (उप ६००) । ३ ठीक-ठीक  
व्यवस्थित (श्राचा) । ४ कृत्, विहित (राज) ।

आउट्ट पु [आकुट्ट] छेदन, हिंसा (सूत्र १,  
१) ।

आउट्ट } वि [आहत्] आदर-युक्त (पिंड  
आउट्टिअ } ३१९, पव ११२) ।

आउट्टण न [आकुट्टन] हिंसा (सूत्र १, १) ।

आउट्टण न [आवर्त्तन] १ आरावन, सेवा,  
भक्ति (वव १, ६) । २ अस्मिमुख होना, तत्पर  
होना (सूत्र १, १०) । ३ अभिलाषा, इच्छा  
(श्राचा) । ४ घूमना, भ्रमण । ५ निवृत्ति  
(सूत्र १, १०) । ६ करना, क्रिया, कृति  
(राज) ।

आउट्टणया स्त्री [आवर्त्तनता] अपायज्ञान  
(एदि) ।

आउट्टणा स्त्री [आवर्त्तना] ऊपर देखो (निवृ  
२) ।

आउट्टावण न [आवर्त्तन] अस्मिमुख करना,  
तत्पर करना (श्राचा २) ।

आउट्टि स्त्री [आकुट्टि] १ हिंसा, मारना (श्राचा, उव) । २ निर्दयता (श्राप १८) ।  
 आउट्टि स्त्री [आवृत्ति] देखो आउट्टण = श्रावर्तन (वव १, १, २, १०, सूत्र १, १, श्राचा) । ५ बार-बार करना, पुन पुन क्रिया (सुज १२) ।  
 आउट्टि वि [आकुट्टिन्] १ मारनेवाला, हिंसक, 'जाण काएण साउट्टी' (सूत्र) । २ अकार्य-कारक (दसा) ।  
 आउट्टि वि [दे] साढे तीन 'एणे पुण एवमा-हनु ता आउट्टि चंदा आउट्टि सूरा नव्वल्लोय श्रोभाणेंति (सुज १६) ।  
 आउट्टिम वि [आकुट्टिम] कूटकर बैठने योग्य (जैम सिक्के मे अक्षर) (दसन २, १७) ।  
 आउट्टिय देखो आउट्ट = आवृत्त (दसा) ।  
 आउट्टिय पुं [आकुट्टिक] दण्ड-विशेष (भत २७) ।  
 आउट्टिय वि [आकुट्टित] छिन्न, विदारित (सूत्र) ।  
 आउट्टिया स्त्री [आकुट्टिका] पाम में श्राकर करना (पचा १५, १८) ।  
 आउट्ट वि [आउट्ट] सनुष्ट (निचू १) ।  
 आउड मक [आ+जोडय्] सवन्व करना, जोडना । कवक आउडिज्जमाण (भग ५, ४) ।  
 आउड मक [आ+कुट्ट] १ कूटना, पीटना । २ ताडन करना, श्राघात करना । आउडेइ (ज ३) । कवक आउडिज्जमाण (भग ५, ४) ।  
 आउड सक [लिप्] लिखना, 'इति कट्टु रागमं श्राउडेइ' सक. आउडित्ता (जं ३—पत्र २९०) ।  
 आउडिय वि [आकुट्टित] श्राहत, ताडित (जं ३—पत्र २२२) ।  
 आउडु श्रक [मस्ज्] मज्जन करना, ह्वना । श्राउडुइ (हे ४, १०१, पड्) ।  
 आउडुअ वि [मग्न] हवा हुआ, तलीन (कुमा) ।  
 आउण वि [आपूर्णा] पूर्ण, भरपूर, व्याप्त, 'कुमुमफनाउणहल्लोहि' (पउम ८, २०३) ।  
 आउत्त वि [आयुक्त] १ उपयोग वाला, सावधान (फप्प) । २ क्रि वि उपयोग-पूर्वक (भग) । ३ न पुरोपोत्सर्ग, फरागत जाना (?)

(उप ६८५) । ४ पु. गाँव का नियुक्त किया हुआ मुखिया (दे १, १६) ।  
 आउत्त वि [आगुत्त] १ मज्जित (ठा ३, १) । २ सयत (भग) ।  
 आउत्थ वि [आत्मोत्थ] श्रात्म-कृत (वव ४) ।  
 आउर वि [आतुर] १ रोगी, बीमार (गदि) । २ उत्कण्ठित । ३ दुःखित, पीडित (प्रासू २८, ६५) ।  
 आउर न [दे] १ लडाई, युद्ध । २ वि बहुत । ३ गरम (दे १, ६५, ७६) ।  
 आउरिय वि [आतुरित] दुःखिन, पीडित (श्राचा) ।  
 आउल वि [आकुल] १ व्याप्त (श्रौप) । २ व्यग्र (श्राव) । ३ व्याकुल, दुःखिन । ४ सकीर्ण (स्वप्न ७३) । ५ पु. समूह (विने ७००) ।  
 आउल सक [आकुलय्] १ व्याप्त करना । २ व्यग्र करना । ३ दुःखी करना । ४ सकीर्ण करना । ५ प्रचुर करना । कवक—आउ-लिज्जत, आउलीअमाण (महा, पि ५६३) ।  
 आउलि स्त्री [आतुलि] वृक्ष-विशेष (दे ५, ५) ।  
 आउलिअ वि [आकुलिन] श्राकुल किया हुआ (गा २५, पउम ३३, १०६, उप पृ ३२) ।  
 आउलीकर सक [आकुली+कृ] देवो आउल=श्राकुलय् । श्राउलीकरेंति (भग) । कवक. आउलीअमाण (नाट) ।  
 आउलीभूअ वि [आकुलीभूत] धवढाया हुआ (सुर २, १०) ।  
 आउलय न [दे] जहाज चानाने का काष्ठमय उपकरण (सिरि ४२४) ।  
 आउस श्रक [आ + वस्] रहना, वास करना । कवक. आउसंत (सम १) ।  
 आउस सक [आ + कुग्] श्राक्रोश करना, शाप देना, निष्ठुर वचन बोलना । श्राउसइ (भग १५) । श्राउसेज, श्राउसेसि (उवा) ।  
 आउस सक [आ + मृग्] स्पर्श करना, छूना । कवक आउसत (सम १) ।  
 आउस सक [आ + जुप्] सेवा करना । कवक आउसत (सम १) ।  
 आउस न [दे] कूचं (दे १, ६५) । क्षुरकमं (नंदोदि टिप्पनक)  
 आउस देखो आउ = श्रायुप् (कुमा) ।

आउस } वि [अयुष्मन्] चिरायु, दीर्घायु  
 आउसंत } (सम २६, श्राचा) ।  
 आउसणा स्त्री [आक्रोशना] श्रमिशाप, निर्भ-  
 त्मनं (शाया १, १८, भग १५) ।  
 आउसस देखो आउस = श्रा + कुग् । श्राउ-  
 ससति (शाया १, १८) ।  
 आउसम पु [आक्रोश] दुर्वचन, असम्य वचन  
 (सूत्र १, ३, ३, १८) ।  
 आउससिय वि [आवश्यक] १ जरूरी । २  
 क्रि वि जरूर, अवश्य (पएण ३६) । °करण  
 न [°करण] १ मन, वचन ओर काया का  
 शुभ व्यापार । २ मोक्ष के लिए प्रवृत्ति (पएण  
 ३६) ।  
 आउह न [आयुध] १ शस्त्र, हथियार (कुमा) ।  
 २ विद्याधर वद्य के एक राजा का नाम (पउम  
 ५, ४४) । °घर न [°गृह] शस्त्रशाला (ज) ।  
 °घरमाला स्त्री [°गृहशाला] देखो श्रनन्तर-  
 उक्त श्रयं (ज) । °वरिय वि [°गृहिक]  
 श्रायुवशाला का श्रव्यज्ञ—प्रवान कर्मचारी  
 (ज) । °गार न [°गार] शस्त्रगृह (श्रौप) ।  
 आउहि- वि [आयुधिन्] योद्धा, शस्त्रधारक  
 (विसे) ।  
 आऊड श्रक [दे] जुए मे पए करना । श्राऊ-  
 डड (दे १, ६६) ।  
 आऊडिय न [दे] धूत-पएण, जुए मे फी जाती  
 प्रतिज्ञा (दे १, ६८) ।  
 आऊर सक [आ + पूरय्] भरना, पूर्ति  
 करना, भरपूर करना । श्राऊरेइ (महा) । कृ.  
 आऊरयत, आऊरमाण (पउम) १०२,  
 ३३, से १२, २८) । कवक. आऊरिज्जमाण  
 (पि ५३७) । सक आऊरिवि (श्रप) (भवि) ।  
 आऊरिय वि [आपूरित] भरा हुआ, व्याप्त  
 (सुर २, १६६) ।  
 आऊसिय वि [आयूपित] १ प्रविष्ट । २  
 सकुचित (शाया १, ८) ।  
 आएज्ज वि [आदेय] ग्रहण करने के योग्य  
 उपादेय । °णाम, °नाम न [°नामन्] कर्म-  
 विशेष, जिसके उदय से किसी का कोई भी  
 वचन ग्राह्य माना जाता है (सम ६७) ।  
 आएस वि [ऐष्यत्] श्रागामी, भविष्य मे  
 होने वाला (सूत्र १, २, ३, २०) ।

आएस पु [आदेश] १ अपेक्षा । २ प्रकार, रीति (एदि १८४) । ३ वि नीचे देखो (पिड २३०) ।

आएम देखो आवेस (भग १४, २) ।

आएस { पु [आदेश] १ उपदेश, शिक्षा ।  
आएसग } २ आज्ञा, हुकुम (महा) । ३ विवक्षा, नर्माति (सम्म ३७) । ४ अतिथि, मेहमान (सूत्र २, १, ५६) । ५ प्रकार, भेद, 'जीवे ए मते ! कालापेण कि सपदेने अपदेने' (भग ६, ४, जीव २, विसे ४०३) । ६ निर्देश (निचू) । ७ प्रमाण, 'जाव न बहुणसन्ता ता मीस एस इय्य आएसो' (पिड २१) । ८ इच्छा, अनिलापा, देखो आएसि । ९ दृष्टान्त, उदाहरण, 'वाचाइयमाणो अवरद्धो हुव अत्रतरएणां' (आचानि २६७) । १० सूत्र, ग्रन्थ, गाल (विसे ४०५) । ११ उपचार, आरोन, 'आएसो उवयारो' (विसे ३४, ८८) । १२ शिष्ट सम्मत, 'बहुमुयमाइएण तु,

न वाहियएणेहि जुगप्पहाणेहि ।

आएसो सो उ नवे,

अहवावि नयतरविगणो' (वव २, ८) ।

आएमण न [आदेशन] ऊपर देखो (महा) ।

आएसण न [आदेशन, आवेशन] लोहा वगैरह का कारखाना, शिल्पशाला (आचा २, २, २, १०, श्रौप) ।

आएसि वि [आदेशन] १ आदेश करने वाला । २ अनिलापो, इच्छुक (आचा) ।

आएसिय वि [आदिष्ट] जिसको आज्ञा दी गई हो वह (भवि) ।

आएसिय वि [आदेशिक] १ आदेश संवन्धी । २ विवाह आदि के जिनमें वे बचे हुए वे स्त्रिय-पदार्थ जिनको अमरणों में बाँट देने का सन्त्य किया गया हो (पिड २२६) ।

आओ अ [दे] अथवा, या, 'हंत किमेयति, कि ताव सुविण्णो, आओ इदजाल, आओ मइविममो, आओ सच्चय चेतति' (म ४५४) ।

आओग पु [आयोग] १ लान, नफा (श्रौप) । २ अत्यधिक सूद के लिए करजा देना (भग) । ३ परिकर, सरंजाम (श्रौप) ।

आओग पु [आयोग] अयोपाय, अयोपार्जन का साधन (सूत्र २, ७, २) ।

आओग पुं [आयोग्य] परिकर, सरजाम (श्रौप) ।

आओज पुन [आयोग्य] वाय, वाजा (महा, पड) ।

आओज वि [आयोग्य] मन्व-योग्य, जोडने योग्य (विने २३) ।

आओड सक [आ + खोट्य] प्रवेश कराना, घुमेडना । आओडावेति (विपा १, ६) । आओडण न [आकोलन] मजबूत करना (से ६, ६) ।

आओडिअ वि [दे] ताडित, मारा हुआ (से ६, ६) ।

आओध अक [आ + युध्] लडना । आओधेहि (वेणि १११) ।

आओस सक [आ + कुग्, क्रोशय] आक्रोश करना, गाप देना । आओसइ (निर १, १) आओसेअति, आओनेमि (उवा) । कवक आओसेअमाण (अत २२) ।

आओस पु [दे] प्रदीप-समय, सन्ध्या-काल (श्रौप ६१ ना) ।

आओसणा ली [आक्रोशना] निर्भर्त्सना, तिरस्कार (निर १, १) ।

आओहण न [आयोधन] युद्ध, लडाई (उप ६४८ टी, सुर ६, २२०) ।

आत वि [अन्त्य] अन्त का (पचा १८, ३६) । आकख सक [अ + अइत्त] चाहना, इच्छना । आकखिहि (भवि) ।

आकखा ली [आकाइआ] चाह, इच्छा, अनिलापा (विने ८५६) ।

आकखि वि [आकाइत्तन्] अनिलापो, इच्छुक (आचा) ।

आकद अक [आ + क्रन्द] रोना, चिल्लाना । आकदामि (पि ८८) ।

आकदिय न [आकन्दित] १ आक्रन्दन, रोदन । २ वि जिसने आक्रन्दन किया हो वह (दि ७, २७) ।

आकप अक [आ + कम्प्] १ थोडा कांपना । २ तत्पर होना । ३ आराधन करना । संकृ. आकपइत्ता, आकपइत्तु (राज) ।

आकप पु [आकम्प] १ थोडा कांपना । २ आराधन (वव) । ३ तत्परता, आर्वाजन (राज) ।

आकपण न [आकम्पन] ऊपर देखो (वव; धर्म) ।

आकपिय वि [आकम्पित] डंपत चलित, कम्पित (उप ५२८ टी) ।

आकपिय वि [आकम्पित] आर्वाजित, प्रसन्न किया हुआ (पिड ४३६) ।

आकड्ड पु [आकूप] खीचाव । 'विकड्डिह ली [विकृष्टि] खीच-तान (भग १५) । आकड्डण न [आकूपण] खीचाव (निचू) ।

आकड्डिहय वि [दे] बाहर निकाला हुआ, 'पुव्व व वच्छ तोए निम्मच्छिया

ता धरित्तु गलयम्मि ।

पच्छिमअसोवणियादादरेणाकड्डिया क्ति ॥' (वर्मवि १३३) ।

आकणण न [आकूपण] अवरण (नाट) ।

आकणिय वि [आकूपित] श्रुत, सुना हुआ (आचा) ।

आकदि देखो आकिट्टि (सखि ६) ।

आकड्डिहय वि [आकस्मिक] अकम्मात् होने-वाला, विना ही कारण होनेवाला, 'वज्जमनि-मित्तामावा जं मयमाकड्डिहयं तति' (विने ३४५१) ।

आकर पुं [आकर] १ खान । २ समूह (कुमा) ।

आकस देखो आगस । आकसिस्सामो (आचा २, ३, १, १५) हेक आकसिन्तए (आचा २, ३, १, १५) ।

आकार देखो आगार (कुमा, दं १३) ।

आकास देखो आगास (भग) ।

आकामिय वि [दे] पर्याप्त, काफी (पड) ।

आकिइ ली [आकृति] स्वल्प, आकार (हं १, २०६) ।

आकिचण न [आकिञ्चन्य] निस्पृहता, निष्परिग्रहता, 'आकिचण च वंसं च जइ-धम्मो' (नव २३) ।

आकिचणया ली [आकिञ्चनता] ऊपर देखो (सम १२०) ।

आकिचणिय } देखो आकिचण (आचू, सुपा  
आकिचण } ६०८) ।

आकिट्टि ली [आकृष्टि] आकूपण (वर्म वि १५) ।

आकिटि देवो आकिड (कुमा) ।

आकुच सक [आ + कुञ्चय्] मकोच करना ।  
आकुचइ, सक आकुचिवि (अप) (भवि) ।  
आकुचण न [आकुञ्चन] मकोच, सकेप  
(नम्म १३३, विने २४६२) ।

आकुचिय वि [आकुञ्चित] मकुचित 'रुद्धं  
गन्ध आकुचियाओ धमणीओ पत्तिया वियणा'  
(सुर ४, २३८) ।

आकुट्ट न [आकुट्ट] ? आकोश । २ वि जिउ  
पर आकोश किया गया हो वह (दे ३, ३२) ।

आकुल दे आउल (कप्प) ।

आकुर न [आकून] ? इज्जित, इशारा (उप  
७०८ टी) । २ अग्निप्राय (विसे ६२८) ।

आग्नेचलिय वि [आग्नेचलिक] अक्षुण्णं  
(आचा) ।

आकोडण न [आकोटन] कूट कर घुसेडना  
(परह १, ३) ।

आकोम देवो अकोस = आकोश (पच ४,  
२३) ।

आकोसाय अक् [आकोशाय] विकमित  
होना । वह आकोमायत (परह १, ४) ।

आकुर (मा) देवो आकुर । आकुरदामि (पि  
८८) ।

आखच (अप) सक [आ + कृप्] पीछे  
खींचना । सक आखचिवि (भवि) ।

आखडल पुं [आखण्डल] इन्द्र (सुपा  
८७) । धणुह न [धनुप्] इन्द्रधनुप्  
(उप ६८६ टी) । भूइ पु [भूति] भग-  
वान् महावीर के मुख्य शिष्य नीतम-स्वामी  
(पठम ११८, १००) ।

आगइ की [आगति] आगमन (आचा, विसे  
२१६६) ।

आगइ देवो आकिड (महा) ।

आगतव्व देवो आगम = आ + गम् ।

आगतगार } न [आगन्त्रगार] वर्मशाला,  
आगतार } मुनाक्खिवाणा (श्रीप, आचा) ।

आगतु वि [आगन्तु] आनेवाला (सूअ) ।

आगन्तु देवो आगम = आ + गम् ।

आगतुगु ? वि [आगन्तुक] ? आनेवाला ।  
आगतुयु } २ अतिथि (स ४८१, चार २८,  
सुपा ३३६, श्रीप २१६) । ३ इयिम, अस्वा-  
भाविक (सुर १०, १०) ।

आगतूण देवो आगम = आ + गम् ।

आगप सक [आ + अप्पय्] बँपाना,  
हिलाना । वह आगपयत (न ३३१, ४४३) ।

आगपिय देवो आगपिय (पठम ३४, ८३) ।

आगच्छ सक [आ + गम्] आना, आग-  
मन करना । आगच्छइ (महा) । भवि  
आगच्छिइइ (पि ५०३) । वह आगच्छत,  
आगच्छमाण (काल ना) । हेह आग-  
च्छित्तए (पि ५७८) ।

आगत देवो आगय (सुर २, २४८) ।

आगती की [दे] कृप जुला (दि १, ६३) ।

आगम सक [आ + गम्] ? आना आगमन  
करना । २ जानना । भवि आगमिन्व (पि  
५०३, ५६०) । वह आगममाण (आचा) ।  
सक आगतूण आगमेत्ता, आगम्म (पि  
५८१, ५८२, श्रीप) । क आगंतव्व (सुपा  
१०) । हेह आगंतु (कान) ।

आगम पु [आगम] ? समागम (पंच, १४५) ।  
२ ज्ञान, जानकारी, 'चोहसविजाणणए आगमे  
कए' (सुर २, १३) ।

आगम पु [आगम] ? आगमन (ने १४,  
७१) । २ शास्त्र, सिद्धान्त (जी ४८) । कुमल  
वि [कुशल] सिद्धान्तों का जानकार (उत्त) ।  
ल वि [ल] शास्त्रों का जानकार (प्राह) ।  
णोड की [नीति] आगमोक्त त्रिवि (वर्म  
२) । णु वि [ल] शास्त्रों का जानकार  
(प्राह) । परतत वि [परतन्त्र] सिद्धान्त  
के अर्थों (पंचव) । वलिय वि [वलिक] सिद्धान्तों  
का अर्थ जानकार (भग ८, ८) ।  
धयहार पु [व्यवहार] सिद्धान्तानुमोदित  
व्यवहार (वव) ।

आगम सक [आ + गम्] प्राप्त करना । सक  
आगमिन्ता (सूअ २, ७, ३६) ।

आगमण न [आगमण] आगमन (आ ४) ।

आगमि वि [आगमिन] जाने वाला, आगामी  
(विसे ३१५४) ।

आगमिअ वि [आगमिन] विदित, ज्ञात,  
'तव्व अच्चतो आगमिओ' (सुर १, ३) ।

आगमिय वि [आगमिक] ? शास्त्र-चर्चवी,  
शास्त्र-प्रतिपादित (उवर १५१) । २ शास्त्रोक्त  
बन्तु को ही माननेवाला (सम्म १४२) ।

आगमिर वि [आगन्तु] आनेवाला, आगमन  
करनेवाला (सए) ।

आगमिम्म वि [आगमिप्पय्] ? आगामी,  
होनेवाला (पठम १६८, ६३) । २ आनेवाला  
(सम्म १५३) ।

आगमिन्मा की [आगमिप्पय्नी] भविप्प-  
वान, 'अइअवानम्मि आगमिन्माए' (पच  
६०) ।

आगमेम्म } देवो आगमिस्स (अंत १६,  
आगमेम्मि } श्रीप) ।

आगम्म देवो आगम = आ + गम् ।

आगय वि [आगय] ? आया हुआ (प्रासू ५) ।  
२ उच्यते (साया १, ७) ।

आगर देवो आकर = आकर (आचा, उप ८३३  
टी) ।

आगरि वि [आकरिन्] खान का मालिक,  
खान का काम करनेवाला (परह १, २) ।

आगरिस पु [आरुपे] ? ग्रहण, उपादान  
(विने २७८० नन १८७) । २ खींचाव (विने  
२७८०, हे १, १७८) । ३ ग्रहण कर छोड़  
देना (आच) । ४ प्राप्ति (भग २५, ७) ।

आगरिस सक [आ + कृप्] खींचना । वह  
आगरिसत (धम्म ३७२) ।

आगरिसग वि [आरुपेक] ? खींचनेवाला ।  
२ पुं अयन्वान, चोह-सुम्बक (आवम) ।

आगरिसण न [आरुपेण] खींचाव (नम्मत्त  
२१५) ।

आगरिसणी की [आरुपेणी] विद्या-विशेष  
(सुर १३, ८१) ।

आगरिसिय वि [आरुपे] खींचा हुआ (सुपा  
१६६, महा) ।

आगल सक [आ + कल्य्] ? जानना ।  
२ लगाना । ३ पहुँचाना । ४ संभावना करना ।

आगलेइ (उव) । आगलेत्ति (भग ३, २) ।  
सक 'हेहिय वनम्मि अगलेउण' (महा) ।

आगल वि [आगलान] ग्लान, बीमार (वृह १) ।

आगस सक [आ + कृप्] खींचना । आग-  
नाहि (आचा २, ३, १, १४) । सक आग-  
मिउ (विने २२०) ।

आगह देवो आगाह । सक आगहइत्ता (वस  
५, १, ३१) ।

आगहिअ वि [आगृहीत] सगृहीत (विसे  
२२०८) ।

आगाढ वि [आगाढ] १ प्रबल, दु साध्य, 'कडुगोसहव आगाढरोगिणो रोगसमदच्छ' (उप ७२८ टी), 'नो कप्पइ निर्गयाण वा निर्गयीण वा अन्नमन्नत्स मोए धाइइत्तए, नन्नत्थ आगडेहि रोगायकेहि' (जस) । २ अपवाद, खास कारण (पचना) । ३ अत्यन्त गाढ (निचू) ।  
 °जोग पु [°योग] यो-विशेष, गरिण-योग (प्रोव ५४८) । °पण्ण न [°प्रज] शास्त्र, आगम, 'आगाढपरणमु य भावियप्पा' (वव) ।  
 °सुय न [°श्रुत] आगम-विशेष (निचू) ।

आगामि वि [आगामिन्] आनेवाला (सुपा ९) ।

आगार सक [आ + कराय्] बुलाना, आह्वान करना । सक आगारेऊण (भाव) ।

आगार न [आगार] १ घर, गृह (राया १, १, महा) । २ वि गृहस्थ, गृहो (ठ) । °त्य वि [°स्थ] गृहो (पि ३०६) ।

आगार पु [आकार] १ अपवाद (उप ७०८ टी; पट्टि) । २ दंशित, चेष्टा-विशेष (सुर ११, १६२) । ३ आहृति, रूप (सुपा ११५) ।

आगारिय वि [आगारिक] गृहस्थ-चवन्धो (विसे) ।

आगारिय वि [आगरित] १ आहृत । २ उचारित, परित्यक्त (भाव) ।

आगाल पु [आगाल] १ नमान प्रदेश मे रहना । २ सम भाव से रहना (भाव) । ३ उदीरणा-विशेष (राज) ।

आगास पुन [आगाश] आकाश, अन्तराल (उवा) । °गमा स्त्री [°गमा] विद्या-विशेष जिनके बल मे आकाश में गमन कर सकता है (पद्म ७, १४४) । °गामि वि [°गामिन्] आकाश में गमन करने वाला, पक्षि-प्रभृति (भाव) । °जोएणी स्त्री [°योगिनी] पक्षि-विशेष, 'आगासजोएणीए निमुओ सटोवि वामपासम्मि' (सुपा १८५) । °स्थिक्काय पु [°स्थिक्काय] आकाश-प्रदेशो का समूह, अथवा आकाश-द्रव्य (परण १) । °यिगालन [°दे] मेररहित आकाश का नाग (भाव) । °फलिह, °फालिय पु [°फटिक] निर्मान्कटिक-रत्न (राय, श्रौप) । °फालिया स्त्री [°फालिका] एक मीठा द्रव्य (परण १७) ।

°इवाड वि [°तिपातिन्] विद्या आदि के बल मे आकाश में गमन करनेवाला (श्रौप) ।

आगासिय वि [आकाशित] आकाश को प्राप्त (श्रौप) ।

आगासिय वि [आकर्षित] खींचा हुआ (श्रौप) ।

आगासिया स्त्री [आकाशिकी] आकाश में गमन करने की लक्ष्मि-शक्ति (सुअनि १६३) ।

आगाह नक [अव + गाह्] श्रवणाहन करना, स्नान करना । आगाहइत्ता (दस ५, १, ३१) ।

आगिइ स्त्री [आकृति] आकार, रूप, मूर्ति (सुर २, २२, विपा १, १) ।

आगिट्टि स्त्री [आकृष्टि] आकर्षण (सुपा २३२) ।

आगी देवो आगिइ, 'द्विएणावलिख्यगामी-दिखानु सामाइय न ज तासु' (विसे २७०७) ।

आगु पु [आकु] अभिनाय, इच्छा (आक) ।

आघ देखो आघव । 'सूत्रकृताग' सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का दसवां अध्याय (सूत्र १, १०) ।

आघम सक [आ + घृप्] घर्षण करना (निचू) ।

आघम सक [आ + घृप्] धिम्ना, थोडा घिसना । आघसिज (भाव २, २, १, ४) ।

आघस वि [आघर्ष] जल के साथ घिसकर जो पिया जा सके वह (पिंड ५०२) ।

आघसण न [आघर्षण] एक बार का घर्षण (निचू) ।

आघयण न [दे] वच-स्थान (राया १, ६—पत्र १६७) ।

आघव सक [आ + ख्या] १ कहना, उपदेश देना । २ ग्रहण करना । आघवेइ (ठ) । कवक आघविजए (भग) । भूना आघ (सूत्र; पि ८८) । वक आघवेमाण (पि ४४) । हेक आघवित्तए (पि ८८) ।

आघवणा स्त्री [आख्यान] कथन, उक्ति (राया १, ६) ।

आघवइत्तु वि [आख्यायक] कथक, वक्ता, उपदेशक (ठ ५, ४) ।

आघविय वि [आख्यात] उक्त, कहा हुआ (वि ८४) ।

आघविय वि [दे] गृहीत, स्वीकृत (अपु २०) ।

आघवेत्तग वि [आख्यापचित्क] उपदेश, वक्ता (भाव) ।

आघस सक [आ + घस्] थोडा घिसना । आघसावेज (निचू) ।

आघा सक [आ + ख्या] कहना । (भाव) । आघा सक [आ + घ्रा] सूंघना । वक आघायत (उप ३५७ टी) ।

आघाय वि [आख्यात] कथित, उक्त (भाव) । आघाय वि [आख्यात] १ उक्त, कथित (सूत्र १, १३, २) । २ न उक्ति, कथन (सूत्र १, १, २, १) ।

आघाय पु [आघात] १ एक नरक-स्थान (देवद २६) । २ विनाश (उक्त ५, ३२, सुख ५, ३२) ।

आघाय पुं [आघान] १ वव । २ चोट, प्रहार (कुमा, राया १, ६) ।

आघायत देखो आघा = आ + घ्रा ।

आघाव देखो आघव । आघावेइ (पि ८८, २०२) ।

आघुट्ट वि [आघुष्ट] घोषित, जाहिर किया हुआ (भवि) ।

आघुम्म अक [आ + घूर्ण] डोलना, हिलना, कांपना, चलना ।

आघुम्मिय वि [आघूर्णित] डोला हुआ, कम्पित, चलित; 'आघुम्मियनयणजुओ' (पद्म १०, ३२, ८७, ५६) ।

आघोस सक [आ + घोषय्] घोषणा करना, डिडोरा पिटवाना । आघोसेह (स ६०) ।

आघोमण न [आघोषण] डिडोरा, घापणा (महा) ।

आचक्य नक [आ + चक्ष] कहना । वक आचकखन (पि २५, ८८, नाट) ।

आचकिल्लद (शौ) वि [आख्यात] उक्त, कथित (अभि २००) ।

आचरिय वि [आचरित] १ अनुष्ठित, विहित । २ न आचरण (प्रासू १११) ।

आचाम सक [आ + चामय्] चाटना, खाना, पीना । वक आचामत (कुप्र ३६) ।

आचार देखो आयार = आचार (कुमा) । आचारिअ देखो आयरिय = आचार्य (प्राप) ।



आचिक्ख मक् [आ + चक्ष्] कहना ।  
कृ, आचिक्खणीय (स ४०) ।

आचिक्खिय वि [आख्यात] कथित, उक्त  
(स ११६) ।

आचुण्णिअ वि [आचूर्णित] १ चूर-चूर  
किया हुआ (पजम १७, १२०) ।

आचेलक न [आचेलक्य] १ वज्र का अभाव  
(कप्प) । २ वि आचार विशेष, 'आचेलको  
धम्मो' (पचा) ।

आच्छेदण न [आच्छेदन] १ नाश । २ वि  
नाशक (कुमा) ।

आजत्थ देवो आगम + आ = गम । आजत्थइ  
(प्राकृ ७४) ।

आजाड देवो आयाइ (ठा, स १७८) ।

आजि देवो आइ = आजि (कुमा, दे १, ४६) ।

आजीरण पु [आजीरण] स्त्रनामभ्यात एक  
जैन मुनि, 'आजीरणो य गोत्रो' (संथा ६७) ।

आजीव } पु [आजीव] १ आजीविका,  
आजीवग } जीवन निर्वाह का उपाय, 'आजी-  
वमेय तु श्रुज्जमारणो पुणो पुणो पिप्परिया-  
सुवेत्ति' (सूत्र) । २ जैन साधु के लिए भिक्षा  
का एक दोष—गृहस्थ को अपनी जाति, कुल  
आदि की समानता बतलाकर उससे भिक्षा  
ग्रहण करना (ठा ३, ४) । ३ गौशालक मत  
का अनुयायी साधु (पव) । ४ धन का समूह  
(सूत्र) ।

आजीवग पु [आजीवक] १ धन का गर्व  
(सूत्र) । २ सकल जीव (जीव ३ टी) । देखो  
आजीवय ।

आजीवण न [आजीवन] १ आजीविका,  
जीवन-निर्वाह का उपाय । २ जैन साधु के  
लिए भिक्षा का एक दोष (पव) ।

आजीवणा स्त्री [आजीवना] ऊपर देखो  
(दस, जीत) ।

आजीवय देखो आजीवग, 'आजीवयदिट्ठेण  
चररासीतिजातिकुलकोडीजोरिणपमुहसयसहन्सा  
भवतीतिमक्खत्ताया' (जीव ३) ।

आजाविअ वि [आजीविक] गौशालक के  
मत का अनुयायी (परण २०, उवा) ।

आजाविअ स्त्री [आजीविका] १ निर्वाह  
(भाव) । २ जैन साधु के लिए भिक्षा का एक  
दोष (उत्त) ।

आजुत्त वि [आयुक्त] अप्रमादी (निच्) ।

आजुत्त मक् [आ + युष्] लडना । हेकू

आजुत्तमहु (शौ) (वेणी १२४) ।

आजुह न [आयुध] हथियार (मै २४) ।

आजोज्ज देवो आभोज्ज (विसे १५०३) ।

आडवर पु [आडम्बर] १ आटोप, ऊपरी  
दिखाव (पात्र) । २ वाद्य की आवाज (ठा) ।  
३ यक्ष-विशेष (आच्) । ४ न यक्ष का मन्दिर  
(पव) ।

आडवर पु [आडम्बर] वाद्य-विशेष, पटह  
(अणु १२८) ।

आडवरिह वि [आडम्बरवत्] आडम्बरी  
(पात्र) ।

आडविय वि [दे] १ चूर्णित, चूर-चूर किया  
हुआ (पह) ।

आडविय वि [आटविक] जंगल में रहनेवाला,  
जंगली (स १२१) ।

आडह सक [आ + दह्] चारो ओर से  
जलाना । आडहइ (पि २२२, २२३) । आड-  
हति (पि २२२, २२३) ।

आडह सक [आ + धा] स्थापन करना,  
नियुक्त करना । आडहइ । संकृ आडहेत्ता  
(श्रीप) ।

आडाडा स्त्री [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे  
१, ६४) ।

आडासेतीय पु [आडासेतीक] पक्षि-विशेष  
(परह १, १) ।

आडि स्त्री [आटि] १ पक्षि-विशेष । २ मत्स्य-  
विशेष (दे ८, २४) ।

आडियत्तिय पु [दे] शिविका-वाहक पुरुष  
(?) (स ५३७, ५४१) ।

आडुआल सक [दे] मिथ्र करना, मिलाना ।  
आडुआलइ (दे १, ६६) ।

आडुआलि पु [दे] मिथ्रता, मिलावट (दे १,  
६६) ।

आडोय देखो आडोव = आटोप (सुपा २६२) ।

आडोलिय वि [दे] रुद्ध, रोका हुआ (राया  
१, १८) ।

आडोव सक [आ + टोपय्] १ आडवर  
करना । २ पवन द्वारा फूटाना । आडोवेइ  
(भग) । संकृ आडोवेत्ता (भग) ।

आडोव पु [आटोप] आडम्बर (उवा, सण) ।

आडोविअ वि [दे] आरोपित, गुस्सा किया  
हुआ (दे १, ७०) ।

आडोविअ वि [आटोपिक] आटोपवाला,  
स्फारित (परह १, ३) ।

आडई स्त्री [आडकी] वनस्पति-विशेष (परण  
१) ।

आडग पुन [आडक] १ चार प्रत्य (सेर) का  
एक परिमाण । २ चार सेर परिमित चीज  
(श्रीप, सुपा ६७) ।

आडत्त वि [दे] आक्रान्त, 'एत्थतरम्मि विजय-  
वम्मनरवइणा आडत्तो लच्छिन्निलयसामी सूर-  
त्तेओ नाम नरवई' (स १४०) ।

आडत्त वि [आरब्ध] शुरू किया हुआ, प्रारब्ध  
(श्रीप ४८२, हे २, १३८) ।

आडत्तिअ } वि [आरब्ध] प्रारंभ किया हुआ  
आडविअ } (मगल २३, चैइय १४८) ।

आडप्प° देखो आडव ।

आडय देखो आडग (महा, ठा ३, १) ।

आडव सक [आ + रम्] आरंभ करना,  
शुरू करना । आडवइ (हे ४, १५५, वम्म  
२२) । कर्म आडवइ, आडवीअइ (हे ४,  
२५४) ।

आडा सक [आ + ह] आदर करना,  
मानना । आडाड (उवा) । वक्क आडामाण,  
आडायमाण (पि ५००, आचा) । कवक्क  
आइज्जमाण (आचा) ।

आडा स्त्री [आदर] समान (पव २—गाथा  
१५५, सत्रोव ५५) ।

आडिअ वि [आहत] सत्कृत, सम्मानित  
(हे १, १४३) ।

आडिअ वि [दे] १ इष्ट, अभीष्ट । २ गणनीय,  
माननीय । ३ अप्रमत्त, उद्युक्त । ४ गाढ,  
निविड (दे १, ७४) ।

आण सक [ज्ञा] जानना, 'किव न आणह  
एअ' (से १३, ३) । आणसि (से १५, २८),  
'अमिअ पाइअकव्वं पडिअ सोअ च जे ए  
आणति' (गा २) । आणे (अभि १६७) ।

आण सक [आ + णी] लाना, आनयन  
करना, ले आना । आणइ (पि १७, नवि) ।  
वक्क आणमाणे (राया १, १६) । हेकू  
आणिवि (अप) (मत्ति) ।

आण पुं [आन] १ स्वामीच्छन्नाम, सास ।  
२ आस के पुद्गल (परण) ।

आण देखो जाण = यान (चार ८) ।  
 आणछ देखो आअंछ । आणछइ (पड्) ।  
 आणत देखो आणी ।  
 आणतरिय न [आनन्तर्य] १ अविच्छेद,  
 व्यवधान का अभाव (ठा ४, ३) । २ अनुक्रम,  
 परिपाटि, 'आणंतरियंति वा अणुपरिवाडित्ति  
 वा अणुकमेत्ति वा एण्डा' (आच्छ) ।  
 आणद अक [आ + नन्द] आनन्द पाना,  
 खुश होना ।  
 आणद सक [आ + नन्द्य] खुश करना ।  
 आणदेदि (शौ) (नाट) । कृ आणदिअञ्च  
 (खण १०) ।  
 आणद पु [आनन्द] १ अहोरात्र का सोल-  
 हवाँ मुहूर्त (सुख १०, १३) । २ एक देव-  
 विमान (देवेन्द्र १३१) ।  
 आणद पुं [आनन्द] १ हर्ष, खुशी (कुमा) ।  
 २ भगवान् शीतलनाथ के मुख्य-शिष्य (नम  
 १५२) । ३ पौतनपुर नगर का एक राजा,  
 जो भगवान् अजितनाथ का मातामह था  
 (पठम ५, ५२) । ४ भावी छठवाँ बलदेव  
 (सम १५४) । ५ नागकुमार-जातीय देवों के  
 स्वामी धरणेन्द्र के एक ख्य-नैत्य का अविपति  
 देव (ठा ५, १) । ६ मुहूर्त-विशेष (सम ५१) ।  
 ७ भगवान् ऋषभदेव का एक पुत्र (राज) ।  
 ८ भगवान् महावीर के एक साधु शिष्य का  
 नाम (कप्य) । ९ भगवान् महावीर के दस  
 मुख्य उपासकों (श्रावक-शिष्य) में पहला  
 (उवा) । १० देव-विशेष (ज, वीव) । ११  
 राजा श्रेणिक के एक पौत्र का नाम (निर  
 २, १) । १२ 'उपासगदना' सूत्र का एक  
 अध्ययन (उवा) । १३ 'अणुत्तरोपपातिक  
 दसा' सूत्र का सातवाँ अध्ययन (भग) ।  
 १४ 'निरयावली' सूत्र का एक अध्ययन  
 (निर २, १) । १५ व देश विशेष (पठम  
 ६८, ६६) । १६ पुर न [पुर] नगर विशेष  
 (वृह) । १७ किरिय पु [रक्षित] स्वनामध्यात  
 एक जैन साधु (भग) ।  
 आणदण न [आनन्दन] १ खुशी, हर्ष (सुपा  
 ४४०) । २ वि खुश करनेवाला, आनन्द-  
 दायक (स ३१३, खण ३, मण) ।  
 आणदवड } पु [दे] पहली बार की रज-  
 आणदवम } म्वला का रक्त वज्र (गा ४५७,  
 दे १, ७२, पड्) ।

आणदा स्त्री [आनन्दा] १ देवी-विशेष,  
 मेरु की पश्चिम दिशा में स्थित रुक्म पर्वत  
 पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी (ठा ८) ।  
 २ इम नाम की एक पुष्करिणी (राज) ।  
 आणदिय वि [आनन्दि] १ हर्षप्राप्त  
 (श्रीव) । २ रामचन्द्र के भाई भरत के साथ  
 दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पठम ८५, ३) ।  
 आणदिर वि [आनन्दिन्] आनन्दी, मुश  
 रहनेवाला (भवि) ।  
 आणदख सक [परि + ईक्ष] परीक्षा  
 करना । हेक आणदखेउ (श्रीव ३६) ।  
 आणदछ देखो आअछ । आणदछइ (पड्) ।  
 आणदट्ट वि [आनट्ट] सर्वथा नष्ट (उत्त १८,  
 ५०, सुख १८, ५०) ।  
 आणण न [आनन] मुन्, मुँह (कुमा) ।  
 आणण न [आनयन] लाना (महा) ।  
 आणत्त वि [आज्ञात्त] आदिष्ट, जिसको हुकुम  
 दिया गया हो वह (साया १, ८, मुर ४,  
 १००) ।  
 आणत्ति स्त्री [आज्ञात्ति] आज्ञा, हुकुम (अभि  
 ८१) । २ अर वि [कर] आज्ञाकारक, नौकर  
 (से ११, ६५) । ३ किंकर वि [किंकर]  
 नौकर (पण्ड) । ४ हर वि [हर] आज्ञा-  
 वाहक, सदेश-वाहक (अभि ८१) ।  
 आणत्तिया स्त्री [आज्ञात्तिका] ऊर देखो  
 (उवा, पि ८८) ।  
 आणत्थ न [आनत्थ्य] अनर्थता (समु  
 १५०) ।  
 आणप (अशो) देखो आणप = आ + ज्ञप्य ।  
 आणपयति (पि ४) ।  
 आणपाण देखो आणापाण (नव ६) ।  
 आणप्य वि [आज्ञाप्य] आज्ञा करने योग्य  
 (सूत्र १, ४, २, १५) ।  
 आणम अक [आ + अच्] श्वास लेना ।  
 आणमति (भा) ।  
 आणमणी देखो आणवणी (भास १८, पि  
 ८८, २४८) ।  
 आणय पुन [आनत] १ देवलोक-विशेष  
 (नम ३५) । २ पु उस देवलोक-वासी देव  
 (उत्त) ।  
 आणय पुंन [आनन] एक देवविमान (देवेन्द्र  
 १३५) ।

आणयण न [आनयन] लाना, आनना (आ  
 १४, स ३७६) ।  
 आणव सक [आ + ज्ञप्य] आज्ञा देना,  
 फरमाना । आणवड, आणवेत्ति (पठम ३३,  
 १००, ६८) । वकृ आणवेमाण (पि  
 ५५१) । कृ आणवेयञ्च (महा) ।  
 आणव देखो आणाव = आ + नाय्य ।  
 आणवण न [आज्ञापन] आज्ञा, आदेश, फर-  
 माण (उवा, प्रामा) ।  
 आणवण न [आनायन] मँगवाना (सुपा  
 ५७८) ।  
 आणवणिय वि [आज्ञापनिक] आज्ञा फर-  
 मानेवाला (राय २५) ।  
 आणवणिया स्त्री [आज्ञापनिका, आनाय-  
 निका] देखो दोनो आणवणी (ठा २, १) ।  
 आणवणी स्त्री [आज्ञापनी] १ क्रिया-विशेष,  
 हुकुम करना । २ हुकुम करने से होनेवाला  
 कर्मवन्व (नव १६) ।  
 आणवणी स्त्री [आनायनी] १ क्रिया-विशेष,  
 मँगवाना । २ मँगवाने से होनेवाला कर्म-वन्व  
 (नव १६) ।  
 आणा स्त्री [आज्ञा] आदेश, हुकुम (श्रीव  
 ६०) । २ उपदेश, 'एसा आणा निगणिय्या'  
 (आचा) । ३ निर्देश, 'उववाओ गिहेसो आणा  
 विणओ य होति एण्डा' (वव) । ४ आगम,  
 सिद्धान्त (विसे ८६४, एदि) । ५ सूत्र की  
 व्याख्या (श्रीव) । ६ ईसर पु [ईठवर] आज्ञा  
 फरमानेवाला मालिक (विपा १, १) । ७ जोग  
 पु [योग] १ आज्ञा का सम्बन्ध (पंचा) ।  
 २ आज्ञा के अनुसार कृति, 'पाव विसाइनुल्लं  
 आणाजोगो अ मतसमो' (पचव) । ३ रुड स्त्री  
 [रुचि] सम्बन्ध-विशेष (उत्त) । ४ वि.  
 आगमो पर श्रद्धा रखनेवाला (नच) । ५ व वि  
 [वन्] आज्ञा माननेवाला (पंचा) । ६ वत्त  
 न [पत्र] आज्ञापत्र, हुकुमनामा (से १,  
 १८) । ७ ववहार पु [व्यवहार] व्यवहार-  
 विशेष (पंचा) । ८ विजय न [विचय,  
 विजय] धर्मध्यान-विशेष, जिसमें आज्ञा—  
 आगम के गुणों का चिन्तन किया जाता है  
 (श्रीव) ।  
 आणाइ पु [दे] शकुनि, पत्नी (दे १, ६४) ।

आणाइत्त वि [आज्ञावन्] धाजा मानने-  
वाला (पचा) ।

आणाइय वि [आनायित] मंगाय्या हुआ  
(कुमा २, २१) ।

आणापाण पु [आनप्राण] १ श्वानोच्छ्वास  
(प्रानू १०४) । २ श्वानोच्छ्वास-परिमित  
समय (अणु) । °पञ्जन्ति स्त्री [°पर्याप्ति]  
श्वानोच्छ्वास लेने की गति (भग ६, ४) ।  
आणापाणु स्त्री [आनप्राण] ऊपर देखो,  
'आणापाणुश्रो' (भग २५, ५) ।

आणापाणुय पु [आनप्राणक] श्वानो-  
च्छ्वास-परिमित काल (कण्प) ।

आणाम पु [आनाम] श्वास, अन्त श्वास  
(भग) ।

आणामिय वि [आनामित] १ थोड़ा नमाया  
हुआ (परह १, ४) । २ अर्धीन किया हुआ  
(पचम ६८, ३७) ।

आणाल पु [आलान] १ अन्धन । २ हाथी  
बाँधने की रज्जु—डोरी । ३ जहाँ पर हाथी  
बाँधा जाता है वह अन्ध, कील (हे २,  
१८७, प्रामा) । °स्त्वम्भ, °स्त्वम्भ पुं  
[°स्त्वम्भ] जहाँ हाथी बाँधा जाता है वह  
स्त्वम्भ (हे २, ११७) ।

आणाव देखो आणव = आ + ञपय् । आणा-  
वेइ (स १२६) । क्वक आणाविज्जत  
(मुपा ३०३) । क आणावेयन्त्र (आचा) ।  
आणाव मक [आ + नायय्] मँगवाना ।  
आणावड (भवि) । संक आणाविय  
(नाट) ।

आणाव (अप) सक [आ + नी] लाना ।  
आणावइ (प्राक १२०) ।

आणावण न [आनायन] दूसरे से मँगवाना,  
'न यमाणयणे पठमा वीया आणावणेण अन्नेहि  
(सवोव ७) ।

आणावण न [आनापन] धाजा, हुकुम  
(पट्) ।

आणाविय वि [आज्ञापित] जिसको हुकुम  
किया गया हो वह, फरमाया हुआ (मुपा  
२५१) ।

आणाविय वि [आनायित] मँगवाया हुआ  
(मुपा ३८७) ।

आणि देवो आणी । क आणियव्व (खण  
६) । सक आणिय (नाट) ।

आणिय वि [आनीत] लाया हुआ (हे १,  
१०१) ।

आणिय [दे] देखो आडिय (दे १, ७४) ।

आणिक वि [दे] देहा, वक्र (से ६, ८६) ।

आणिक न [दे] तियक् मैथुन (दे १, ६१) ।

आणी सक [आ + नी] लाना । कर्म

आणीअइ (पि ५४८) । क्व 'आणंतीए

गुणेषु, दोनेनु परमुह कुणंतीए' (मुद्रा २३६) ।

सक आणीय (वित्ते ६१६) । कक्क

आणित्त (मुपा १६३) ।

आणीय वि [आनीत] लाया हुआ (हे १,  
१०१, काल) ।

आणुअ न [दे] १ मुठ, मुँह (दे १, ६२,  
पट्) । २ आकार आकृति (दे १, ६०) ।

आणुओगिय वि [आनुयोगिक] व्याख्या-  
कर्ता (एदि ५१) ।

आणुकपिय वि [आनुस्मिक] दयालु, कृपालु  
(राज) ।

आणुगामि वि [अनुगामिन्] नीचे देखो  
(वित्ते ७३६) ।

आणुगामिय वि [आनुगामिक] १ अनुसरण  
करनेवाला, पीछे-पीछे जानेवाला (भग) ।

२ न अवविज्ञान का एक भेद (आवम) ।

आणुगुण } न [आनुगुण्य] १ श्रौचित्य,

आणुगुण } अनुकृपा (पचा ६, २६) । २

अनुकूलता (धर्मसं ११८६) ।

आणुवम्मिय वि [आनुधमिक] इतर धर्म-

वालो को भी अभीष्ट, सर्वधर्म-सम्मत (आचा) ।

आणुपाणु देखो आणापाणु (कम्म ५, ४०) ।

आणुपुव्व न [आनुपुव्वे] अनुक्रम, परिपाटी

(निर १, १) ।

आणुपुव्वी स्त्री [आनुपूर्वी] क्रम, परिपाटी

(अणु) । °णाम, °नाम न [°नामन्] नाम-

कर्म का एक भेद (सम ६७) ।

आणुलोमिय वि [आनुलोमिक] अनुलोम,

अनुकूल मनोहर (दस ७, ५६) ।

आणुवित्ति स्त्री [अनुवृत्ति] अनुसरण (स

६१) ।

आणुग पुन [अनूप] सजलप्रदेश (धर्मसं

६२६) ।

आणुय पुं [दे] धपच, डोम (दे १, ६४) ।

आणे सक [आ + नी] लाना, ले घाना ।

आणेइ (महा) । क आणियव्व (मुपा

१६३) । सक आणेऊण (महा) ।

आणे नक [जा] जानना । आणेइ (नाट) ।

आणेशर देवो आणा-ईसर (था १०) ।

आत देखो आय = आत्मन् (ठा १) ।

आतंय देवो आयव = आत्त (स २६१) ।

आतित्य देखो आडित्य (कुप्र १००, २८६) ।

आत्त देखो अत्त = आत्मन्, 'आत्तहिय सु

दुहेण लब्ध' (सूय १, २, २, ३०) ।

आत्त देखो अत्त = आत्त (अणु २१) ।

आत्त वि [आत्मीय] स्वकीय (अणु २१) ।

आदम्म } देवो आयस (गा २०४, प्रति

आदसग } न, मूय १, ४) ।

आद (शौ) देखो अत्त = आत्मन् (द्रव्य ६) ।

आद देखो आइ = आ + दा । आदए (मूय १,

८, १६) ।

आदण्ण } वि [दे] आकुल, व्याकुल, धन-

आदण्ण } डया हुआ (उप पृ २२१, हे ४,

४२२) ।

आदयाण वि [आददान] ग्रहण करता हुआ

(श्रु १३८) ।

आदर देखो आयर = आ + द । आदरइ (हे

४, ८३) ।

आदरिम देखो आदस (कुमा; दे २, १०७) ।

आदाड वि [आदाट्ट] ग्रहण करनेवाला

(वित्ते १५६८) ।

आदाण देखो आदाण (ठा ४, १), 'गन्मा-

दाएण सज्जयानि तुम' (पचम ६५, ६० उवा) ।

आदाण न [आदहण] उवाला हुआ, गरम

किया हुआ (जल तैल आदि) (उवा) ।

आदाणिय न [आदानीय] लाभ, नफा (सुख

४, ६) ।

आदाणीय देखो आयाणीय (कण्प) ।

आदाय देखो आया = आ + दा ।

आदि देखो आइ = आदि (कण्प; सूय १, ५) ।

आदिष देखो आइष (ठा ५, ३, ८) ।

आदिच्छा स्त्री [आदित्सा] ग्रहण करने की

इच्छा (आव) ।

आदिज्ज देखो आएज्ज (भग) ।

आदिट्ट देखो आइट्ट (अभि १०६) ।

आदित्त देखो आइच्च (वजा १६०) ।

आदिचु वि [ आदाट ] ग्रहण करनेवाला (ठा ७)।

आदिय सक [ आ + दा ] ग्रहण करना। आदियद् (उवा)। प्रयो. आदियावैति (सूत्र २, १)।

आदिह् } देवो आइह् (पि ५६५)।  
आदिह्य }

आदी स्त्री [ आदी ] इस नाम की एक महानदी (ठा ५, ३)।

आदीण वि [ आदीन ] १ अत्यंत दीन, बहुत गरीब (सूत्र १, ५)। २ न दूषित मित्रा। ३ भोड वि [ ० भोजिन् ] दूषित मित्रा को लेने-वाना, 'श्रादीणमोर्द्धवि करेति पाव' (सूत्र १, १०)।

आदीणिय वि [ आदीनिक ] अत्यन्त दीन-नंक्वो, 'श्रादीणिय दुक्कडिय पुत्त्वा' (सूत्र १, ५)।

आदु (शौ) देवो अदु (पि ६०)।

आदेज् देवो आएज् (परह १, ४)।

आदेस देवो ओएस = आदेश (कुमा, वव २, ८)।

आदेस पु [ आदेश ] व्यपदेश, व्यवहार (सूत्र १, ८, ३)। देवो आएस = आदेश (सूत्र २, १, ५६)।

आधरिम सक [ आ + धर्य् ] परास्त करना, तिरस्कारना। आधरिमहि (श्रावम)। आवा देवो आहा (पिड)।

आधार देवो आहार = आवार (परह २, ५)। आधोरण पु [ आधोरण ] हस्तिपक, महावत, हाथीवान् (धर्मवि १३३)।

आनय देवो आणय (अनु)।

आनामिय देवो आणामिय (परह १, ४)।

आपण देवो आणण (अभि १८८)।

आपण्ण देवो आवण्ण (अभि ६५)।

आपत्ति स्त्री [ आपत्ति ] प्राप्ति (सर्वोप ३५, पव १४६)।

आपाइय वि [ आपादित ] १ जिसकी आपत्ति की गई हो वह। २ उत्तादित, जनित (विने १७४६)।

आपाणन [ आपादन ] संपादन (श्रावक ८२, पचा ६, १६)।

आपीड पु [ आपीड ] शिरोभूषण (श्रा २८)।

आपीण देवो आवीण (गउड)।

आपुच्छ सक [ आ + प्रच्छ ] भ्राजा लेना, सम्मति लेना। आपुच्छद् (महा)। वक्क आपुच्छत (पि ३६७)। कृ आपुच्छणीय (राया १, १)। संकृ आपुच्छित्ता, आपुच्छित्ताणं, आपुच्छिऊण, आपुच्छिऊं, आपुच्छिय (पि ५८२, ५८३, कप्प, ठा ५, १)।

आपुच्छण न [ आप्रच्छण ] भ्राजा, अनुमति (राया १, ६)।

आपुट्ट वि [ आपुट्ट ] जिसकी भ्राजा या सम्मति ली गई हो वह (नुर १०, ५१)।

आपुण्ण वि [ आपूर्ण ] पूर्ण, भरपूर (दे १, २०)।

आपूर पु [ आरूर ] पूरनेवाला 'मयणासरा-पूर 'मर्म' (कप्प)।

आपूर देवो आऊर। कर्म, आपूर्ण्विद् (महा)। वक्क आपूरमाण, आपूरेमाण (भग, राय)।

आपेड }  
आपेड्डु } देवो आपीड (पि १२२, महा)।  
आपेह् }

आप्पण न [ दे ] पिट्ट, श्रादा (पड्)।

आफस पु [ आस्पर्ण ] अल्प स्पर्श (हे १, ४४)।

आफर पु [ दे ] द्यूत, जुमा (दे १, ६३)।

आफाल सक [ आस्फालय् ] आस्फालन करना, श्राघात करना। सकृ आफालित्ता, आफालिऊण (पि ५८२, ५८६)।

आफालग देवो अफालग (गा ५४६)।

आफुण्ण वि [ दे ] आक्रान्त (अणु १६२)।

आफोडिअ न [ आस्फोटित् ] हाथ पछाडना (परह १, ३)।

आवध सक [ आ + वन्ध् ] मजबूत बाँधना। वक्क आवधत (हे १, ७)। सकृ आवंधिऊण (पि ५८६)।

आवध पुं [ आवन्ध ] सवन्ध, सयोग (गउड)।

आवद्ध वि [ आवद्ध ] बंधा हुआ (स ३५८)।

आवाहा स्त्री [ आवावा ] १ अल्प वावा (राया १, ४)। २ अन्तर (सम १५)। ३ मानसिक पीडा (शुह)।

आभक्कर पु [ आभक्कर ] १ ग्रह-विशेष (ठा २, ३)। २ न विमान-विशेष (सम ८)।

०भक्कर न [ ०प्रभक्कर ] विमान-विशेष (सम ८)।

आभक्खाण देवो अउभक्खाण (उवा)।

आभट्ट वि [ आभापित ] १ कथित, उक्त (सुपा १५१)। २ समापित (नुर २, २४८)।

आभरण न [ आभरण ] अलंकार, श्राभूषण (पि ६०३)।

आभउव वि [ आभउव ] होने योग्य, समाव्य (वव, सुपा ३०७)।

आभा स्त्री [ आभा ] प्रभा, कान्ति, तेज (कुमा, श्रौप)।

आभागि वि [ आभागिन ] भोक्ता, भोगी, 'अणोणाण जम्ममरणाण आभागी भवेज्' (वमु, राया १, १८)।

आभार पु [ आभार ] बोध, भार (सुपा २३६)।

आभास सक [ आ + भाप् ] कहना समा-पण करना। आभासद् (हे ४, ४४७)।

आभास पु [ आभास ] १ जो वास्तविक में वह न होकर उसके समान लगता हो। २ विपरीत, 'करणाभानेहि' (कुमा)।

आभासिय पु [ आभापिक ] १ इन नाम का एक म्लेच्छ देश। २ उसमें रहनेवाली म्लेच्छ जाति (परह १, १)। ३ एक अन्तर्द्वीप। ४ उसमें रहनेवाला, 'कहि ण भते! आभासियमणुयारणं आभासियदीवे नाम दीवे' (जीव ३, ठा ४, २)।

आभामिय देवो आभट्ट (निर)।

आभोगिय देवो आभोगिय (महा)।

आभोग पु [ आभोग्य ] १ किकर-स्थानीय देव-विशेष (ठा ४, ४)। २ नौकर, किकर (राय)। ३ किकरता, नौकरी (दम ६, २)।

आभोगा स्त्री [ आभोग्या ] श्राभियोगिक भावना (उत्त ३६, २५५)।

आभोगि वि [ आभोगिन् ] किकर-स्थानीय देव (दम ६)।

आभोगिय वि [ आभियोगिक ] १ मन्त्र श्रादि से श्राजीविका चलानेवाला (परण २०)। २ नौकर-स्थानीय देव विशेष (राया १, ८)। ३ वहीकरण, दूसरे को वश में करने का मन्त्रादि-कर्म (पचा, महा)।

आभियोगिय वि [आभियोगित] वशीकरण  
आदि से संकृत (आव) ।

आभियोग देखो आभियोग (परण २०) ।

आभिर्गाह्य वि [आभिग्रहिक] १ अग्निग्रह-  
सवन्वी (पंचा ८, ८) । २ न मिव्यात्व-  
विशेष (पंच ४, २) ।

आभिर्गाह्य वि [आभिग्रहिक] १ प्रतिज्ञा  
से सवन्व रखनेवाला । २ प्रतिज्ञा का निर्वह  
करनेवाला (आव) । ३ न मिव्यात्व-विशेष  
(आ ६) ।

आभिणविय पुं [आभिनन्दित] आवण  
मान (चद) ।

आभिष्टु } वि [दे] प्रवृत्त, 'आभिष्टु पर-  
आभिष्टिय } मरण' (पद्म ४, ४२, ६, १६२,  
वजा ४०) ।

आभिणिवोहिग देखो आभिणिवोहिय (वर्मस  
८०३) ।

आभिणिवोहिय न [आभिनिवोधिक] इन्द्रिय  
और मन से होनेवाला प्रत्यक्षज्ञान-विशेष  
(सम ३३) ।

आभिष्पाइअ वि [आभिप्रायिक] अग्निप्राय-  
वाला (अणु १४५) ।

आभिसेक वि [आभिपेक्य] १ अग्निपेक के  
योग्य (निर १, १) । २ मुख्य, प्रधान; 'आभि-  
नेक हृत्विचरण पडिकम्पेह' (श्रीप) ।

आभीर } पुं [आभीर] एक शूद्र-जाति,  
आभीरिय } अहीर, गोवाला (सूत्र १, ८, चुर  
९, ६०) ।

आभूअ वि [आभूत] उत्पन्न (निर १, १) ।

आभेडिय [दे] देखो आभिष्टु (उप ५ ४२) ।

आभोइअ वि [आभोगित] देखा हुआ (कम्प) ।

आभोग पुं [आभोग] १ विलोकन, देखना  
(उप १४७) । २ प्रवेष्ट, त्याग (सुर २, २२१) ।

३ उपकरण, साधन (श्रीष ३६) । ४ प्रति-  
लेखन (श्रीष ३) । ५ उपयोग, ब्याज (भग) ।

६ विन्तार (शाया १, १) । ७ ज्ञान, जानना  
(भग २५, ६, ठा ४) । देखो आभोय =  
मानोग ।

आभोगण न [आभोगन] ऊपर देखो (एदि) ।

आभोगि वि [आभोगिन्] परिपूर्ण, 'जह  
कमलो निरवाप्रो जाप्रो जसविहवाभोगी' (सुभा

२७५) । °गी ली [°नी] मानसिक निर्णय  
उत्पन्न करानेवाली विद्या-विशेष (वृह) ।

आभोय मक [आ + भोग्य] १ देवता ।

२ जानना । ३ दयाल करना । आभोएइ (उवा-  
णाया) । वहु आभोएमाण (कम्प) । संक  
आभोइत्ता, आभोएऊण, आभोइअ (दस  
५, महाः पंचव) ।

आभोय पु [आभोग] १ सर्प की फला (स  
६१०) । २ देखो आभोग (आव, महाः नुर  
३, ३२) ।

आम अ [आम] अनुमति प्रकाशक अव्यय—  
हैं (गा ४१७, नुर २, २४५, म ४५६) ।

आम अ [भवन्] आप (प्राक ८१) ।

आम पु [आम] १ रोग, पीडा (से ६, ४४) ।

२ वि. अपन्न, कच्चा (आ २०) । ३ अशुद्ध,  
अप्रवित्र (आचा) । °जर पुं [°त्वर] अजीर्ण  
से उत्पन्न बुद्धार (गा ५१) ।

आमइ वि [आमयिन] रोगी (वव १) ।

आम अ [आम] १ न्वीकार-सूचक अव्यय—हैं  
(नुख २, १३) । २ अतिशय, अत्यन्त (वर्मस  
६४६) ।

आमड न [दे] बनावटी आमला का फल,  
कृत्रिम आमलक (उप ५०१४, उप १४५ टी) ।

आमडण न [दे] भाएड, पात्र (दे १, ६८) ।

आमत मक [आ + मन्त्र्य] १ आह्वान  
करना संबोधन करना । २ अभिनन्दन करना ।  
वहु आमतेमाण (आचा) । संक आमतित्ता  
(कम्प), आमतिय (सूत्र १, ४) ।

आमतण न [आमन्त्रण] आह्वान, संबोधन  
(वव) । °वयण न [°वचन] संबोधन-विभक्ति  
(विने ३४५३) ।

आमतणी ली [आमन्त्रणी] १ संबोधन की  
भाषा, आह्वान की भाषा (दस ६) । २ आठवीं  
संबोधन-विभक्ति (ठा ८) ।

आमतिय वि [आमन्त्रित] संबोधित (विपा  
१, ६) ।

आमग देखो आम (शाया १, ६) ।

आमघाय पु [अमाघात] अमास-प्रदान, हिंसा-  
निवारण (पचा ६, १५, २०, २१) ।

आमज्ज सक [आ + मज्ज] एक बार साफ  
करना । आमज्जेव (आचा) । वहु. आमज्जत  
(निबू) । प्रयो आमज्जावत (निबू) ।

आमद पुं [आमद] सघर्ष, आघात (कुमा) ।

आमय पु [आमय] रोग, दर्द (स ५६६,  
त्वप्न ६०) । °करणी ली [°करणी] विद्या-  
विशेष (सूय २, २) ।

आमय वि [आमत] संमत, अनुमत (विने  
१३६) ।

आमराय पुं [आमराज] एक प्रसिद्ध राजा  
(ती ७) ।

आमरिस पुं [आमरिप] न्यशं (विने ११८६) ।

आमल पुंन [आमलक] आमला का फल  
(सम्मत १५६) ।

आमलई ली [आमलकी] आमला का पेट  
(दि) ।

आमलकप्पा ली [आमलकप्पा] नगर-विशेष  
(शाया २, १) ।

आमलग पुं [आमरक] १ चारों ओर से  
मारना । २ विपाक-श्रुत का एक अव्ययन (ठा  
१०) ।

आमलग पुंन [आमलक] १ आमला का  
आमलय } पेट (ठा ४) । २ आमला का फल,  
'मुकजोवाप्रो आमलगो विव करतले देसिप्रो  
मगवयो' (वसु, कुमा) ।

आमलय न [दे] त्रपुर-गृह, त्रपुर रखने का  
न्याय (दे १, ६७) ।

आमसिण वि [आमसृण] १ थोड़ा चिकना ।  
२ च्लसित (ने १०, ४३) ।

आमिह सक [आ + मुच्] छोड़ना ।  
आमिहड (भवि) ।

आमिस न [आमिप] नैवेद्य (पचा ६, २६,  
दुप ४२३, ती १३) ।

आमिस न [आमिप] १ मास (शाया १,  
४) । २ वि. मनोहर, सुन्दर (से ६, ३१) ।  
३ शक्ति का कारण, 'आमिसं सव्वमुल्लिक्कता  
विहरिन्नामो निरामिसा' (उत्त १४) । ४  
माहार, फलादि भोग्य वस्तु (पंचा ६) ।

आमुच सक [आ + मुच्] १ छोड़ना ।  
२ उतारना । ३ पहनना । वहु आमुचंत  
(आक ३८) ।

आमुक्क वि [आमुक्क] १ त्यक्त (गा ५३६,  
गउड) । २ उतारा हुआ (आक ३८) । ३ परि-  
हित (वेणी १११ टी) ।

आमुट्ट वि [आमुट्ट] १ स्मृत् । २ उलटा किया हुआ (भोग) ।  
 आमुय सक [ आ + मुच् ] छोटना, त्यागना ।  
 श्रापुयड (गडड) ।  
 आमुस सक [ आ + मूज ] थोडा या एक वार स्पर्श करना । वक्त आमुसत, आमुस-माण (डा १, आचा, भग ८, ३) ।  
 आमेडणा वी [आमेडना] विपर्यस्त करना, उलटा करना (परह १, ३) ।  
 आमेल पुं (दे) लट, जटा (दे १, ६२) ।  
 आमेल } पुं [आपोड] फूलों की माला, जो  
 आमेलग } मुकुट पर धारण की जाती है,  
 आमेलय } शिरोभूषण (हे १, १०५, पि १२२, भग ६, ३३) ।  
 आमेह देखो आमेल = आपीड (उवा २०६) ।  
 आमेडिअ वि [आपीडित] भवतसित, शिरो-भूषण से विभूषित (से ६, २१) ।  
 आमोअ अक [आ + मुद] बुरा होना । सक आमोएधि (भप) (भवि) ।  
 आमोअ पुं [दे आमोद] हर्ष, खुशी (दे १, ६४) ।  
 आमोअ पुं [आमोद] सुगन्ध, अच्छी गन्ध (से १, २३) ।  
 आमोअ पु [आमोद] वाय विशेष (राय ४६) ।  
 आमोअअ वि [आमोदक] १ सुगन्ध उत्पन्न करनेवाला । २ आनन्द-जनक (से ६, ६०) ।  
 आमोअअ वि [आमोदद] सुगन्ध देनेवाला (से ६, ४०) ।  
 आमोदअ वि [आमोदित] हट, हर्षित (भवि) ।  
 आमोअख पु [आमोअ] मोक्ष, मुक्ति, पूर्ण छुटकारा (सूत्र १, १, ४, १३) ।  
 आमोअखा वी [आमोअ] १ छुटकारा । २ परित्याग (सूत्र १, ३, पि ४६०) ।  
 आमोड पुं [दे] बूट, लट, सपूह (दे १, ६२) ।  
 आमोडग न [आमोडक] १ वाय-विशेष (आच) । २ फूलों से बालों का एक प्रकार का बन्धन (उत्तनि ३) ।  
 आमोडण न [आमोटन] थोडा मोडना (परह १, १) ।  
 सामोडिअ वि [आमोटित] मर्दित (माल ६०) ।

आमोद } देखो आमोअ (स्वप्न ५२, मुर ३, आमोय } ४१, काल) ।  
 आमोय पुं [आमोक] कतवार-पुञ्ज, कतवार का डेर, कूडे का पुञ्ज (आचा २, ७, ३) ।  
 आमोअ वि [दे] विशेषतः, अच्छा जानकार (दे १, ६६) ।  
 आमोस पुं [आसर्ग, र्प] स्पर्श, छूना; 'सफ-स्मरणमासो' (परह २, १ टी; वित्से ७८१) ।  
 आमोस पु [आमोप] चोर (उत्त ६, २८) ।  
 आमोसग वि [आमोपक] १ चोर, चोरी करनेवाला (डा ५, २) । २ चोरों की एक जाति (उर २, ६) ।  
 आमोसहि पु [आमशौपधि] लज्जित-विशेष, जिनके प्रभाव में स्पर्श मात्र में ही सब रोग नष्ट होते हैं (परह २, १, श्रौप) ।  
 आय पुं [आय] १ लाभ, प्राप्ति, फायदा (भरण) । २ वनस्पति-विशेष (परण १) । ३ कारण, हेतु (वित्से १२२६, २६७६) । ४ अध्ययन, पठन (विने ६५८) । ५ गमन (विने २७६२) ।  
 आय पुं [आय] अध्ययन, शास्त्राश-विशेष (भरण २५०) ।  
 आय वि [आज] १ अज-सम्बन्धी । २ बकरे के बाल से उत्पन्न (बलादि) (आचा) ।  
 आय वि [आगत] प्राया हुआ (काल) ।  
 आय वि [आत्त] गृहीत, 'आयचरित्तो करेइ गमणं', (तथा ३६) ।  
 आय पु [आगल्] १ पाप । २ अपराध, गुनाह (था २३) ।  
 आय पुत्री [आत्मन्] १ आत्मा, जीव (सम १) । २ निज, स्वयं, 'अहालहुस्सगाईं रयणाइ गहाय प्रायाए एगंतमत अक्खामति' (भग ३, २) । ३ शरीर, देह (शाया १, ८) । ४ ज्ञान आदि आत्मा के गुण (आचा) । 'गुत्त वि [गुम] सयत, जित्तिन्द्रिय, 'आययुता जिहं-दिया' (सूम) । 'जोगि वि [योगिन्] मुमुक्षु, व्यानी (सूय) । 'ट्टि वि [थिन्] मुमुक्षु, 'एवं से भिन्नु प्रायट्ठी' (सूम) । 'तत वि [तन्त्र] स्वावीन, स्वतन्त्र (राज) । 'तत्त न [तत्त्व] परम पदार्थ, ज्ञानादि रत्न-श्रय (आचा) । 'पपमाण वि [प्रमाण] साढ़े तीन हाय का परिमाण वाला (पव) । 'पपचाय न

[प्रवाद] वाह्वें जैन अङ्ग ग्रन्थ का एक भाग, सातवां पूर्व (सम २६) । 'भाव पुं [भाव] १ आत्म-स्वरूप । २ निज अभिप्राय (भग) । ३ विषयासक्ति, 'विणइज्जो सब्बह प्रायभाव' (सूत्र) । 'य पु [ज] पुत्र, लडका (भवि) । 'रक्ख वि [रक्ष] अङ्गरसक (शाया १, ८) । 'व वि [वत्] ज्ञानादि आत्मगुणों से संपन्न (आचा) । 'हम्म वि [ध] आत्मा को अधोगति में ले जानेवाला । २ देखो आहाकम्म (पिड) ।  
 आय देवो आउड, 'किचायरक्खिओ जो पुरिसो सो होइ वरिसमयआऊ' (सुपा ४५३) ।  
 आयइ वी [आयति] भविष्य काल (मुर ४, १३१) ।  
 आयडजणग न [आयतिजनक] तपधर्या-विशेष (पव २७१) ।  
 आयडत्ता देखो आइ = आ + दा ।  
 आयक पु [आतङ्क] १ दुःख । २ पीडा (आचा) । ३ दुःसाध्य रोग, आशु-याती रोग (श्रौप) ।  
 आयकि वि [आतङ्किन्] रोगी, रोग युक्त (डा ५, ३, टी—पत्र ३४२) ।  
 आयगुल न [आत्माङ्गुल] परिमाण का एक भेद, 'जेणं जया मणूमा, तेसिं ज होइ माणख्व तु । त भणियमिहायगुलमणिययमाण पुण इम तु' (वित्से ३४० टी) ।  
 आयच सक [आ + तच्] सीचना, छिडकना । आयचइ, आयचामि (उवा) ।  
 आयंचणिया वी [आतञ्चनि] कुम्भकार का पात्र-विशेष, जिसमें वह पात्र बनाने के समय मिट्टीवाला पानी रखता है (भग १५) ।  
 आयंचणी वी [आतञ्चनी] ऊपर देखो (भग १५) ।  
 आयत वि [आचान्त] जिसने आचमन किया हो वह (शाया १, १, स १८९) ।  
 आयत देखो आया = आ + या ।  
 आयतम वि [आत्मतम] आत्मा को खिन्न करनेवाला (डा ४, २) ।  
 आयतम वि [आत्मतमस्] १ अज्ञानी, अज्ञान । २ क्रोधी (डा ४, २) ।  
 आयदम वि [आत्मदम] १ आत्मा को शान्त

रखनेवाला, मन और इन्द्रियों का निग्रह करने-  
वाला । २ अथ आदि को सयत रहने को  
सिखानेवाला (ठा ४, २) ।

आयप पु [आम्प] काँपना, हिलना ।  
२ काँपनेवाला (पञ्च ६६, १८) ।

आयपिय वि [आकम्पित] काँपाया हुआ (न  
३५३) ।

आयव अक [वेप्] काँपना, हिलना ।  
आयवइ (हे ८ १८७) ।

आयव } वि [आताम्र] घोडा लाल  
आयविर } (श्लोप मुर ३ ११०, नुपा ६,  
१४४) ।

आयविल न [आचाम्ल] तपो विरोध, आविल  
(णया १८) । वड्डमाण न [वधेमान]  
तपश्चर्या विरोध (अत ३०, महा) ।

आयविलिय वि [आचाम्लिक] आम्बिल-तप  
का कर्ता (ठा ७, परह २, १) ।

आयभर } वि [आत्मभरि] स्वार्थी, अकेल-  
आयभरि } पैरे (ठा ४, ३) ।

आयव अक [आ + कम्प] काँपना, हिलना  
(श्रामा) ।

आयम } पु [आदर्श] १ दर्शन (परह १, ४,  
आयंसग } सूत्र १, ५) । २ वैल आदि के गले  
का मूषण-विरोध (अणु) । मुह पु [सुय] १  
एक अन्तर्द्वीप । २ उनके निवासी मनुष्य (ठा  
८, २) ।

आयकर देखो आइकरप । आयकवाहि (भग) ।  
अयग वि [आजक] देखो आय = आज  
(आचा) ।

आयज्म अक [वेप्] काँपना, हिलना ।  
आयज्मइ (हे ४, १४१, पड्) । वक  
आयज्मन (कुमा) ।

आयट्ट मक [आ + वर्त्तय्] १ फिराना,  
घुमाना । २ उवाचना । वक आअट्ट (से  
५, ७५, ८, १६) । कवह आयट्टिज्माण  
(णया १, ६) ।

आयट्टण न [आवर्त्तन] फिराना (सुपा ५३०) ।

आयड्ड सक [आ + कृप्] खींचना ।  
आयड्डइ (महा) । कवक आअड्डिज्जन (से  
५, २८) । सक, आयड्डिऊण (महा) ।

आयड्डण न [आकर्षण] आकर्षण, खींचाव  
(सुपा १२, ७६, गा ११८) ।

आयडिह खी [आकृष्टि] नर देखो (गड्ड,  
दे ६, २१) ।

आयडिह पु [दे] विस्तार (दे १, ६८) ।

आयडिहय वि [आकृष्ट] खींचा हुआ (काल,  
कम्प) ।

आयणग मक [आ + कर्णय्] मुनना,  
श्रवण करना । आग्रणोड (गा ३६५) । वक  
आअणगत (ने १, ६५, गा ४६५, ६४३) ।  
सक आयणिऊण (उवा) ।

आयणग न [आकर्णन] श्रवण (महा) ।

आयणिगय वि [आकर्णन] मुना हुआ  
(उवा) ।

आययत वक [आददन्] ग्रहण कर्ता  
हुआ (सूत्र २, १) ।

आयत्त वि [आयत्त] अवीन, स्वयं (गा  
३७६) ।

आयत्त देखो आयण्ण । वक आयत्तव (नुर  
१, २४७) ।

आयत्तण देखो आयण्णग (नुर ३, २१०) ।

आयम मक [आ + चम्] आचमन करना,  
कुला करना । हेक आयमिचर (कम्प) ।  
वक आयममाण (ठा ५) ।

आयमग न [आचमन] शुद्धि, जीव (श्रा  
१२, गा ३३०, निहू ३, स २०६, २५२) ।

आयमिअ देखो आगमिअ (हे १, १७७) ।

आयमिणी खी [आयमिनी] विद्या-विरोध  
(सूत्र २, २) ।

आयय वि [आयत] १ लम्बा, विन्तुत (उवा,  
पञ्च ८, २१५) । २ पु मोक्ष (सूत्र १, २) ।

आयय मक [आ + दट्] ग्रहण करना ।  
आयय, आययति (दस ५, २, ३१, उत ३,  
७) । वक आययमाण (पिड १०७) ।

आययण न [आयतन] १ प्रकटीकरण (सूत्र  
१, ६, १६) । २ उपादान कारण (सूत्र १,  
१२, ५) ।

आययण न [आयतन] १ घर, गृह (गड्ड) ।  
२ आश्रय, स्थान (आचा) । ३ देव-मन्दिर  
(आवम) । ४ धार्मिक जनों का एकत्र होने  
का स्थान,

'जत्व साहम्मिया वहवे सीलवता बहुस्तुया ।  
चरित्तयासरपणणा आययण त वियाण हु'  
(धम्म) । ५ कर्म-बन्ध का कारण (आचा) ।

६ निर्णय, निश्चय (नूत्र १, ६) । ७ निर्दोष  
न्यान (साध १०६) ।

आयर मक [आ + चर] आचरना, करना ।  
आयरइ (महा, उव) । वक आयरत,  
आयरमाण (भग) । क. आयरियउव (स १) ।  
आयर पु [आकर] १ खानि, खान । २ समूह  
(काल कम्प) ।

आयर देखो आयार = आचार (पुष्क ३५६) ।

आयर पुं [आदर] १ सम्कार, सम्मान  
(गड्ड) । २ परिग्रह, प्रसतोप (परह १, ५) ।  
३ म्याल, नमाल (कम्प) ।

आयरग पु [आयरङ्ग] इन् नाम का एक  
म्लेच्छ राजा (पञ्च २७, ६) ।

आयरण न [आचरण] प्रवृत्ति, अनुष्ठान (पडि) ।

आयरण न [आदरण] आदर (भा १० १) ।

आयरणा खी [आचरणा] परंपरा का रिवाज  
(चिद्व २५) ।

आयरणा खी [आचरणा] आचरण, अनुष्ठान  
(मट्टि १४५, उवर १४५) ।

आयरिय वि [आचरित] १ अनुष्ठित, विहित,  
कृत (उवा) । २ न शास्त्र-मन्मत चाल-चलन,  
'असदेण समाइल्ल ज कत्यइ वेणइ अवावर्ज ।  
न निवारियनन्नेहि य, बहुमगुमयमेयमायरिय'  
(उप = १३) ।

आयरिय पु [आचार्य] १ गण का नायक,  
मुखिया (आवम) । २ उपदेशक, उच, शिक्षक  
(भग १, १) । ३ अर्थ पढानेवाला (भग  
८, ८) ।

आयरिस देखो आयस (हे २, १०१) ।

आयल्ल अक [लम्ब] १ व्याप्त होना । २  
लटकना, 'विस्सकलाउ खवि श्रोणल्लइ, परि-  
मोक्खु नियवि आयल्लइ' (भवि) ।

आयल्लया खी [दे] वैचैनी, 'मयणसरविह-  
रियगी सहना आयल्लय पत्ता' (पञ्च ८,  
१८६), 'विद्वो अणवालोहि भत्ति आयल्लय  
पत्ता' (नुर १६, ११०), 'कि उण पिअव-  
अन्न मयणायल्लय अत्तणो उद्वेहि अक्खरोहि  
णिवेदेमि' (कम्प) । देखो आअल्ल ।

आयल्लिय वि [दे] आक्रान्त, व्याप्त (उप  
१०३१ टी; भवि) ।

आयव पुं [आतपवत्] महोपाय का २४वां  
मूहत्वं (नुज १०, १३) ।

धायव वि [आतप] १ उद्योत, प्रकाश (गा ४६) । २ ताप, घान (उत्त) । ३ न. मुहूर्त-विशेष (सम ५१) । ०णाम, ०नाम न [०नामन्] नामकर्म का एक भेद (सम ६७) ।  
 आयवत्त न [आतपत्र] द्यय, द्याता (शाया १, १) ।  
 आयवत्त पु [आर्यावर्त्त] भारत, हिन्दुत्वान (इक) ।  
 आयवा स्त्री [आतपा] १ सूर्य की एक अत्र-महिषी—पटरानी । २ इस नाम का 'जाता-वर्मकवा' सूत्र का एक अव्ययन (शाया २, १) ।  
 आयस वि [आयस] लोहे का, लोह-निर्मित (गड्ड, निवू १) ।  
 आयसी स्त्री [आयसी] लोहे का कोण (पएह १, १) ।  
 आया देखो आय = आत्मन् ।  
 आया सञ् [आ + या] आना, आगमन करना । आयति (नुपा ५७) । आयाइति, आयाइचु (कप्) । बहु आयत ।  
 आया मञ् [आ + दा] ग्रहण करना, स्वीकार करना । आयइज्ज (उत्त ६) । ४ आया-णिज्ज (ठा ६) । सङ्. आयाण, आदाय, आयाय (क्ञ, कप्, महा) ।  
 आयाइ स्त्री [आजाति] १ उत्पत्ति, जन्म (ठा १०) । २ जाति, प्रकार । ३ आचार, आचरण (आचा) । ०ट्टाण न [०स्थान] १ संसार, जगत् । २ 'आचारान्ण' सूत्र के एक अत्ययन का नाम (ठा १०) ।  
 आयाइ स्त्री [आजाति] १ आगमन । २ उत्पत्ति, गर्भ से बाहर निकलना (ठा २, ३) । ३ आयति, भविष्य काल (दसा) ।  
 आयाए देखो आया = आ + दा ।  
 आयाण पुंन [आदान] १ ग्रहण, स्वीकार (आचा) । २ इन्द्रिय (भग ५, ४) । ३ जिसका ग्रहण किया जाय वह, ग्राह्य वस्तु (ठा ४; नूम २, ७) । ४ कारण, हेतु, 'सति मे तत्त आयाणा जेहि कीड पावण' (नूम १, १), 'किंवा दुक्खायाणं अट्टण्णाण समाव्हसि' (पत्तम ६५, ४८) । ५ आदि, प्रथम (अणु) ।  
 आयाण न [आदान] १ संयम, चरित्र (नूय १, १२, २२) । २ वि आदेय, उपादेय (सुय

१, १४, १७, तदु २०) । ०पय न [०पठ] ग्रन्थ का प्रथम शब्द (अणु १४०) ।  
 आयाण न [आयान] १ आगमन । २ अरव का एक आचरण-विशेष (गड्ड) ।  
 आयाम सक [आ + यमय्] लम्बा करना । वक्क आआमिज्जन (से १० ८) । संकृ. आयामेत्ता, आयामेत्ताण (भग, पि ५८३) ।  
 आयाम सक [आ + यम्] गौच करना, युद्धि करना । आयामइ (पव १०६ टी) ।  
 आयाम नक [दा] देना, दान करना । आयामेइ (भग १५) । संकृ आयामेत्ता (भग १५) ।  
 आयाम पु [आयाम] लम्बाई, देर्घ्य (सम २, गड्ड) ।  
 आयाम पु [दे] वल, जोर (दे १, ६५) ।  
 आयाम न [आचाम्ल] तपा-विशेष, आयविनः 'नाइविगिट्ठो उ त्तो उम्मासे परिमियं तु आयाम' (आचानि २७२, २७३) ।  
 आयाम } न [आचाम] अत्रत्तावण, चावल  
 आयामग } आदि का पाना (आप ३५६, उत्त १५) ।  
 आयामणया स्त्री [आयामनता] लम्बाई (भग) ।  
 आयामि वि [आयामिन्] लम्बा (गड्ड) ।  
 आयामुही स्त्री [आयामुही] इस नाम की एक नगरी (स ४३१) ।  
 आयाय देखो आया = आ + दा ।  
 आयाय वि [आयात्] आया हुआ (पत्तम १४, १३०; दे १, ६६, कुम्मा १६) ।  
 आयार सक [आ + कारय्] बुलाना, आह्वान करना । आआदि (शी) (नाट) । संकृ. आआ-रिअ, आआरेऊण (नाट, स ५७८) ।  
 आयार पु [आकार] १ आकृति, रूप (शाया १, १) । २ इन्द्रित, इशारा (पाम) ।  
 आयार पु [आकार] 'अ' अक्षर (कुप्र ३२) ।  
 आयार पु [आचार] १ आचरण, अनुष्ठान (ठा २, ३, आचा) । २ चाल-चलन, रीत-भात (पत्तम ६३, ८) । ३ बारह जैन अङ्गन्यों में पहला ग्रन्थ, 'आयारपडममुत्ते' (उप ६८०) । ४ निपुण शिष्य (भग १, १) । ०क्खेवणी स्त्री [०क्षिपणी] क्या का एक भेद (ठा ४) । ०भडग, ०भडय न [०भाण्डक] ज्ञानादि का लपकरण—मायन (शाया १, १, १६) ।

आयारिमय न [आचारिमक] विवाह के समय दिया जाता एक प्रकार का दान (स ७७) ।  
 आयारिय वि [आकारित] १ आहूत, बुलाया हुआ (पत्तम ६१, २५) । २ न आह्वान-वचन, आक्षेप-वचन (मे १३, ८०, अमि २००) ।  
 आयव सक [आ + तापय्] सूर्य के ताप में शरीर को थोड़ा तपाना । २ शीत, आतप आदि को सहन करना । बहु आयवत्त पत्तम ६, ६१, आयविन् (काल), आयवेत्त (पत्तम २६, २१), आयवेमाण (महा भग) । हेक आयवेत्तए (कस) । सकृ आयविय (आचा) ।  
 आयव पु [आताप] अमुरकुमार-जातीय देव-विशेष (भग १३, ६) ।  
 आयव पु [आताप] आतप-नामकर्म (पच ५, १३७) ।  
 आयवग वि [आतापक] गीत आदि को सहन करनेवाला (सुम २, २) ।  
 आयवण न [आतापन] एक बार या थोड़ा आतप आदि को सहन करना (शाया १, १६) । ०भूमि स्त्री [०भूमि] शीतादि सहन करने का म्यान (भग ६, ३३) ।  
 आयवणया } स्त्री [आतापना] ऊपर देखो  
 आयवणा } (ठा ३, ५) ।  
 आयवय वि [आतापक] शीत आदि को सहन करनेवाला (पएह २, १) ।  
 आयवल } पु [दे] सवेर का तडका,  
 आयवलय } बालातप (दे १, ७०, पाम) ।  
 आयवि वि [आतापिन] देखो आयवय (ठा ८) ।  
 आयाम सक [आ + यासय्] तकलीफ देना, खिन्न करना । आआसति (पि ४६०) । संकृ आआसिअ (मा ४५) ।  
 आयास पुंन [आयास] १ तकलीफ, परिश्रम, खेद (गड्ड) । २ परिग्रह, असन्ताप (पएह १, ५) । ०लिपि स्त्री [०लिपि] लिपि-विशेष (पएह १) ।  
 आयास देखो आयस (पड) ।  
 आयास देखो आगास (पत्तम ६६, ४०, हे १, ८४) । ०तिलय न [०तिलक] नगर-विशेष (भवि) ।



आयामःशक्तिञ् वि [आयासयित्] तकलीफ देनेवाला (अभि ६३) ।

आयासतल न [आकाशतल] चन्द्रशाला, घर के ऊपर की खुली छत (कुप्र ४९२) ।

आयामतल न [दे] प्रसाद का पृष्ठ भाग (दे १, ७२) ।

आयामलव न [दे] पक्षिगृह, नोड (दे १, ७२) ।

आयासिअ वि [आयासित] परिश्रान्त, खिन्न (गा १६०) ।

आयाहम्म वि [आत्मज्ञ] १ आत्मविनाशक । २ न आधाकम दोष (पिंड ६५) ।

आयाहिण न [आदक्षिण] दक्षिण पार्श्व से त्रमण करना ( उवा ) । १ पयाहिण वि [०प्रदक्षिण] दक्षिण पार्श्व से भ्रमण कर दक्षिण पार्श्व में स्थित होनेवाला (विपा १, १) । १ पयाहिणा स्त्री [०प्रदक्षिणा] दक्षिण पार्श्व में परिभ्रमण, प्रदक्षिणा (ठा १) ।

आयु देवो आउ = आयुष् । १ वत वि [वत्] चिगपुष्क, दीर्घ आयुवाला (परह १, ४) ।

आर पु [आर] १ इह-लोक, यह जन्म (सूत्र १, २, १, ८, १६, २८, १, ८, ६) । २ मनुष्य-लोक (सूत्र १, ६, २८) । ३ नुकीली लोहे की कील (कुप्र ४३४) । ४ न गृहम्वपन (सूत्र १, २, १, ८) ।

आर पु [आर] १ मंगल-ग्रह (पञ्च १७, १०८, सुर १०, २२४) । २ चौथा नरक का एक नरकावाम (ठा ६) । ३ वि अर्वाक्त्तन, पूर्व का (सूत्र १, ६) ।

आरअ वि [कारक] कर्त्ता, करनेवाला (गा १७६, ३८८) ।

आरओ अ [आरत्तस्] १ पूर्व, पहले, अर्वाक् (सूत्र १, ८, म ६८३) । २ ममीप में, पास में (उप ३३१) । ३ शुरु कर के, प्रारम्भ कर के (विसे २२८५) ।

आरओ अ [आरत्तस्] पीछे से (एदि २४६ टी) ।

आरटर वि [दे] १ अनेकान्त । २ संकट, व्याप्त (दे १, ७८) ।

आरभ सक [आ + रभ्] १ शुरु करना । २ हिंसा करना । आरंभइ (हे ४, १६५) ।

वक् आरभत (गा ४२, से ८, ८) । सक, आरंभइत्ता, आरभिश्र (नाट) ।

आरंभ पुं [आरम्भ] १ शुरुआत, प्रारम्भ (हे १, ३०) । २ जीव-हिंसा, वध (था ७) । ३ जीव, प्राणी (परह १, १) । ४ पाप-कर्म (आचा) । ५ वि [०ज] पाप-कार्य से उत्पन्न (आचा) । ६ विणय पु [०विनय] आरंभ का अभाव । ७ विणइ वि [०विनयिन्] आरंभ में विरत (आचा) ।

आरभग } पुं [आरम्भक] १ ऊपर देवो  
आरभय } (सूत्र २, ६) । २ वि. शुरु करने-  
वाला (विसे ६२८, उप पृ ३) । ३ हिंसक,  
पाप-कर्म करनेवाला (आचा) ।

आरभि वि [आरम्भिन्] १ शुरु करनेवाला (गठ) । २ पाप-कार्य करनेवाला (उप ८६६) ।

आरभिअ पु [दे] मालाकार, माली (दे १, ७१) ।

आरभिअ वि [आरब्ध] प्रारब्ध, शुरु किया हुआ (नवि) ।

आरभिअ देखो आरभ = आ + रभ् ।

आरभिआ स्त्री [आरम्भिणी] १ हिंसा से सम्बन्ध रखनेवाली क्रिया । २ हिंसक क्रिया से होनेवाला कर्म-बन्ध (ठा २, १, नव १७) ।

आरकर न [आरकर] कीतवाल का श्रोहदा, कीतवाली, आरक्षकता (सुल ३, १) ।

आरकर वि [आरक्ष] १ रक्षण करनेवाला (दे १, १५) । २ पु कीतवाल, नगर का रक्षक (पात्र) ।

आरकरग वि [आरक्षक] १ रक्षण करने-  
वाला, श्राता (कप्य, मुपा ३५१) । २ पु  
क्षत्रियों का एक वंश । ३ वि उस वंश में  
उत्पन्न (ठा ६) ।

आरक्खि वि [आरक्षिन्] रक्षक, श्राता (ठा ३, १, श्रोष २६०) ।

आरक्खिग } वि [आरक्षि] १ रक्षक,  
आरक्खिय } श्राता । २ पु कीतवाल (निचू  
१, १६, सुपा ३३६, महा, स १२७, १५१) ।

आरज्ज सक [आ + राध्] आराधन करना ।  
आरज्जइ (आक्र ६८) ।

आरज्ज वि [आराध्य] पूज्य, माननीय (अचू ७१) ।

आरट सक [आ + रट्] १ चिल्लाता, वृन मारना । २ रोना । वक्, आरटंत (उप १२८ टी) । मंजु, आरटिऊण (महा) ।

आरटिअ न [दे] १ विलाप, क्रन्दन । २ वि. चिद्र युक्त (दे १, ७५) ।

आरण पु [आरण] १ देवलोक-विशेष (अनु, सम ३६, इत्) । २ सम देवलोक का निवासी देव, 'तत्रैव आरण्यच्युय श्रोहीनाणोण पामति' (सग २२१, विने ६६६) ।

आरण पुन [आरण] एत देवनिमान (दिवेन्द्र १३५) ।

आरण न [द] १ शबर, होठ । २ पत्रक (दे १, ७६) ।

आरणाल न [आरनाल्] काजी, सावूदाना (दे १, ६७) ।

आरणाल न [दे] कमल, पत्र (दे १, ६७) ।

आरणण वि [आरण्य] जंगली, जंगल-निवासी (ने ८, ५६) ।

आरणणग } वि [आरण्यक] १ जंगली, जंगल-  
आरणणय } निवासी, जंगल में उत्पन्न (उप  
२०६; सा ) । २ न शाक-विशेष, उपनिषद्-  
विशेष, (पञ्च ११, १०) ।

आरणिगय वि [आरण्यिक] जंगल में वसने-  
वाला (तापस आदि) (सूत्र २, २) ।

आरत वि [आरत] १ घोडा रक्त (आचा) ।  
२ अत्यन्त अनुत्क (परह २, ४) ।

आरत्तिय न [आरात्रिक] आरती (मुर १०, १६, कुमा) ।

आरद्ध वि [आरब्ध] प्रारब्ध, शुरु किया हुआ (काल) ।

आरद्ध वि [दे] १ वडा हुआ । २ मत्तुण, उल्लुक । ३ घर में आया हुआ (दे १, ७५) ।

आरनाल देवो आरणाल = आरनाल (पात्र) ।

आरनाल न [दे] कमल, पत्र (पह्) ।

आरन्निय देखो आरणिगय (सूत्र २, २, २१) ।

आरव देखो आरव ।

आरवम नीचे देखो ।

आरभ देखो आरभ = आ + रभ् । आरभइ (हे ४, १५५, उवर १०) । वक् आरभत, आरभमाण (ठा ७) । सक, आरवम (विसे ७६५) ।



आलीढ पुन [आलीढ] योदा का युद्ध समय का आसन-विशेष (वच १) ।

आलीण वि [आलीन] १ नील, आसक्त, तन्पर (पञ्च ३२, ६) । २ आनिगित आष्टि (कम्प) ।

आलीयग वि [आलीपक] जलानेवाला, आग चुनगानेवाला (शाखा १, २) ।

आलीयमाण देखो आली = आ + ली ।

आलील न [दे] समीप का भय, पास का डर (द १, ६५) ।

आलीवग देखो आलीवग (परह १, ३) ।

आलीवण न [आलीपन] आग लगाना (दि १, ७१, विपा १, १) ।

आलीविच वि [आलीपित] आग ने जलाया हुआ (पि २४४) ।

आलु पुन [आलु] बन्द-विशेष, आलू (आ २०) ।

आलुई त्री [आलुकी] बह्नी-विशेष (पव १०) ।

आलुग्न सक [वह्] जलाना, दाह देना । आनु खड (हे ४, २०० पङ्) ।

आलुग्न सक [म्पृग्] स्पर्श करना, छूना । आलु ग्वह (हे ४ १८२) ।

आलुखण न [म्पर्जन] स्पर्श, छूना (गच्छ) ।

आलुखिअ वि [म्पृष्ट] म्पृष्ट, छुआ हुआ (सि १, २१, पाश) ।

आलुखिअ वि [दग्ध] जला हुआ (सुर ६ २०३) ।

आलुघ सक [म्पृग्] छूना । आलु ग्वह (प्राक् ८) ।

आलुप सक [आ + लुम्प्] हरण करना । आनु ग्वह (आचा) ।

आलुप वि [आलुम्प] अपहारक, हरण करने-वाला, दौन देनेवाला (आचा) ।

आलुग देखो आलु (परण १) ।

आलुगा त्री [दे] घटी, छोटा घटा (उप ६६०) ।

आलुयार वि [दे] निर्यक, ध्वंस, निष्प्रयोजन, 'ता दंसिमो नमग्गं अग्रहं किं आलुयारनणि-एहिं' (नुपा ३४३) ।

आलुमिअ वि [आलेख्य] चित्रित, 'रति आलुमिअय' पन्विट्टेणं लक्खं आलेख्खदियाय-

राखि न तम' (अचु २५, से २, ४५, गा ६४१ गच्छ) ।

आलेट्टु } देखो आसिलिम ।  
आलेट्टुअ }

आलेव पु [आलेप] विलेपन, लेप, 'आलेव-निमित्तं च देवीओ वन्यालकियवाहाओ घसति चंदण' (महा) ।

आलेवण न [आलेपन] १ लेप, विलेपन । २ जिमका लेप किया जाता है वह वस्तु, 'जे भिक्खू रति आलेवणजाय पडिग्गाहेता' (निचू १२) ।

आलोसय वि [आलेपित] आनिगन कराया हुआ (वेइय ३७६) ।

आलेह पु [आलेग] चित्र (आवम) ।

आलेहिअ वि [आलेपित] चित्रित (महा) ।

आलोअ सक [आ + लोक्] देखना, विलोकन करना । वहु आलोअत, आलो-

इत, आलोएमाण (गा ५४६, उव पृ ४३, आचा) । क्वहु आलोअत (से १, २५) ।

सक. आलोएज्जण, आलोइत्ता (काल, ठ ६) ।

आलोअ सक [आ + लोक्] १ देखना । २ गुरु को अपना अपराध कह देना । ३ विचार करना । ४ आलोचना करना । आलोएइ

(नग) । वहु आलोअत (पडि) । सक आलोएत्ता, आलो-इअ (नग, पि ५८०) ।

हेहु आलोइत्तए (ठ २, १) । क आलो-एयल्ल, आलोएइयल्ल (उव ६८२, श्रौव ७६६) ।

आलोअ पु [आलोक्] १ तेज प्रकाश (से २, १२) । २ विलोकन अथवा तर्क देखना (श्रौव ३) । ३ पृथ्वी का समान-भाग, सम भू-भाग (श्रौव ५६५) । ४ गवाडादि प्रकाश-न्यान (आचा) । ५ जगत्, ससार (आव) ।

६ ज्ञान (परह १, ४) ।

आलोअग वि [आलोचक] आलोचना आलोअय करानेवाला (आ ४०, पुष्प ३५५, ३६०) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

'अथानोअणउतरत्ता, इअरुइएणं ममति बुदीओ । उ एव निरारभ, एति हियय कईदाणं' (गच्छ) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

'अथानोअणउतरत्ता, इअरुइएणं ममति बुदीओ । उ एव निरारभ, एति हियय कईदाणं' (गच्छ) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

आलोअण न [आलोअण] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्रौव ५६ ना) ।

यावज्जीव, जीवन-पर्यन्त (आव) । °कहा स्त्री [°कथा] जीवन-पर्यन्त, 'धरणा आवकहाए मुक्कुलवास न मुंचति' (उप ६८१) । °कहिय वि [°कथिक] यावज्जीविक, जीवन-पर्यन्त रहनेवाला (ठा ६, उप ५२०) ।

आव पु [आप] १ प्राप्ति, लाभ (परह २, १) । २ जल का समूह । °वहुल न [°वहुल] देखो आव-वहुल (कस) ।

आव सक [आ + या] आना, आगमन करना, 'वणवसिराणवि निच्च आवइ निदासुह ताण' (सुपा ६४७) । आवइ (नाट) । आवति (सग १६२) ।

आवआस चक [उप + गृह्] आनिगन करना । आवआमइ (प्राक ७४) ।

आवइ स्त्री [आपद्] आपत्ति, विपत्त, सकट (सम ५७, सुपा ३२१, सुर ४, २१५, प्रासू ५, १५६) ।

आवग पुं [दे] अपामागं, वृक्ष विशेष, लज्जीरा (दे १, ६२) ।

आवहु वि [आपाण्डु] थोडा सफेद, फीका (गा २६५) ।

आवहुँर वि [आपाण्डुर] ऊपर देखो (से ६, ७४) ।

आवंत देखो जावंत, 'भावती के यावती लोगसि समणा य माहणा य' (आचा १, ४, २, ३, १, ५, २, १, ४, पि ३५७) ।

आवग्गण न [आवलान] अन्न पर चढ़ने की कला (भवि) ।

आवञ्जे वि [अपत्तीय] अपत्य-स्थानीय (कप) ।

आवज्ज देखो आओज्ज (हे १, १५६) ।

आवज्ज अक [अ + पद्] प्राप्त होना, लागू होना । आवज्जइ (कस) । कृ आवज्जियव्व (परह २, ५) ।

आवज्ज सक [आ + वर्ज] १ संमुख करना । २ प्रसन्न करना; 'भावज्जति गुणा सत्तु अन्नहपि जण अमच्छरिय' (स ११) ।

आवज्ज सक [आ + पद्] प्राप्त करना । आवज्जइ (उत्त ३२, १०३) । आवज्जे (सूत्र १, १, २, १६, २०), आवज्जसु (मुख २, ६) ।

आवज्ज } वि [आवर्ज, °क] प्रीत्युत्पादक  
आवज्जग } (पिठ ४३८) ।

आवज्जण न [आवर्जन] १ संमुख करना । २ प्रसन्न करना (आचू) । ३ उपयोग, ख्याल । ४ उपयोग-विशेष । ५ व्यापार-विशेष (विसे ३०५१) ।

आवज्जिय वि [आवर्जित] १ प्रसन्न किया हुआ । २ श्रमिमुख किया हुआ (महा; सुर ६, ३१, सुपा २३२) । °करण न [°करण] व्यापार-विशेष (आचू) ।

आवज्जिय देखो आउज्जिय = आतोधिक (कुमा) ।

आवज्जीकरण न [आवर्जीकरण] उपयोग-विशेष या व्यापार-विशेष का करना, उदीर-गावतिका मे कर्म-प्रक्षेप रूप व्यापार (श्रीप, विसे ३०५०) ।

आवट्ट अक [आ + वृत्] १ चक्र की तरह घूमना, फिरना । २ विलीन होना । ३ सक शोषण करना, सुखाना । ४ पीडना, दुःखी करना । आवट्टइ (हे ४, ४१६; सूत्र १, ५, २) । वक आवट्टमाण (से ५, ८०) । आवट्ट देखो आवत्त (आचा; सुपा ६४, सूत्र १, ३) ।

आवट्टणा स्त्री [आवर्तना] आवर्तन (प्राक ३१) ।

आवट्टिआ स्त्री [दे] १ नवोढा, दुलहिन । २ परतन्न स्त्री (दे १, ७७) ।

आवड देखो आवत्त = आवर्त (राय ३०) ।

आवड सक [आ + पत्] १ आना, आगमन करना । २ आ लगना । वक आवडत (प्रासू १०६) ।

आवडण न [आपतन] १ गिरना (से ६, ४२) । २ आ लगना (स ३८४) ।

आवणवीहि स्त्री [आपणवीथि] १ हट्ट-मागं, बाजार । २ रथ्या-विशेष, एक तरह का मुहल्ला (राय १००) ।

आवडिअ वि [आपतित] १ गिरा हुआ (महा) । २ पास में आया हुआ (से १४, ३) ।

आवडिअ वि [दे] १ सगत, सबड (दे १, ७८, पात्र) । २ सार, मजवूत (दे १, ७८) ।

आवण पु [आपण] १ हाट, दूकान (णया १, १, महा) । २ बाजार (प्रासा) ।

आवणिय पु [आपणिक] सौदागर, व्यापारी (पात्र) ।

आवण वि [आपन्न] १ आपत्ति-युक्त । २ प्राप्त (गा ४६७) । °सत्ता स्त्री [°सत्त्वा] गर्भिणी, गर्भवती स्त्री (अभि १२४) ।

आवण वि [आपन्न] आश्रित (सूत्र १, १, १, १६) ।

आवत्त सक [आ + वृत्] आना, 'नावत्तइ नागच्छइ पुणो भवे तेण अणुणरावित्ति' (चेइव ३६६) ।

आवत्त अक [आ + वृत्] १ परिभ्रमण करना । २ बदलना । ३ चक्राकार घूमना । ४ सक पठित पाठ को याद करना । °घुमाना । आवत्तइ (सूक्त ५१) । वक अत्तमाण, आवत्तमाण (हे १, २७१, कुमा) ।

आवत्त पु [आवर्त्त] १ चक्राकार परिभ्रमण (स्वप्न ९६) । २ मुहूर्त-विशेष (सम ५१) । ३ महाविदेह क्षेत्रस्थ एक विजय (प्रदेश) का नाम (ठा २, ३) । ४ एक खुरवाला पशु-विशेष (परह १, १) । ५ एक लोकपाल का नाम (ठा ४, १) । ६ पर्वतविशेष (ठा ६) । ७ मणि का एक लक्षण (राय) । ८ ग्राम-विशेष (भावम) । ९ शारीरिक चेष्टा-विशेष, कायिक व्यापार-विशेष, 'दुवालसावत्ते कित्ति-कम्मे' (सम २१) । °कूड न [°कूट] पर्वत-विशेष का शिखर विशेष (इक) । °यत वक [°यमान] दक्षिण की तरफ चक्राकार घूमने-वाला (भग ११, ११) ।

आवत्त पुन [आवर्त्त] १ एक तरह का जहाज (सिरि ३८३) । २ न लगातार २५ दिनों का उपवास (सवोध ५८) ।

आवत्त न [आतपन्न] छत्र, छाता (पात्र) । आवत्तण न [आवर्त्तन] चक्राकार भ्रमण (हे २, ३०) । °पेदिया स्त्री [°पीठिका] पीठिका-विशेष (राय) ।

आवत्तय पु [आवर्त्तक] देखो आवत्त । १० वि चक्राकार भ्रमण करनेवाला (हे २, ३०) ।

आवत्ता स्त्री [आवर्त्ता] महाविदेह-क्षेत्र के एक विजय (प्रदेश) का नाम (इक) ।

आवत्ति स्त्री [आपत्ति] १ दोष-प्रसंग, 'सव्व-विमोक्खावत्ती' (विसे १६३४) । २ आपदा, कष्ट । ३ उत्पत्ति (विसे ६६) ।

आवत्ति स्त्री [आपत्ति] प्राप्ति (धर्मस ४७३) ।

आवृत्ति स्त्री [आवृत्ति] आवरण (संक्षि ६)।  
आवृत्त देखो आवरण (पद्य ३४, ३०, लाया  
१, २, स २५६, उवर १६०)।

आवृत्त पुं [आवृत्त] देखो आवृत्त, 'कित्ति-  
कर्म वारसावृत्त' (सम २१)।

आवृत्त देखो आवृत्त। वृत्त आवृत्त आवृत्त-  
माण (पद्य ३३, १३, लाया १, १, ८)।  
आवृत्त स्त्री [आवृत्त] नदी (पाद्य, स  
६१२)।

आवृत्त स्त्री [आवृत्त] आपदा, विपद्, दुःख  
(पाद्य, वष ४२),

'न गच्छति पुत्रनेह, न य

नीह नय लोचन-प्रवचाय।

नय नाविश्रावयाप्रो, पुरिसा

महिलाए आवृत्ता' (मुर २, १८६)।

आवृत्त सक [आ + वृ] आच्छादन करना,  
ढाकना। कर्म आवृत्तः (नग ६, ३३)।  
कर्म आवृत्तः (नग १५)। सक-  
आवृत्तः (ठ)।

आवृत्त न [आवृत्त] आच्छादन करने-  
वाला, टकनेवाला, तिरौहित करनेवाला (सम  
७१, लाया १, ८)। २ वाद्य-विद्या (ठ  
६)।

आवृत्तः [आवृत्त] आच्छादन करनेवाला  
(श्रीप)। २ टकनेवाला, आच्छादन करनेवाला  
(श्रीप)।

आवृत्तः वि [आवृत्त] आच्छादित, तिरौ-  
हित, 'आवृत्तः कर्महि' (निचू १)।

आवृत्तः न [आवृत्त] छिड़कना, मिचन  
(वृह १)।

आवृत्तः न [आवृत्त] सुगन्ध जल की वृत्ति  
(धनु २५)।

आवृत्तः स्त्री [आवृत्त] करिका, मय परोमने  
का पात्र-विशेष (दे १, ७१)।

आवृत्त न [आवृत्त] मोठना (परह १,  
१)।

आवृत्तः स्त्री [आवृत्त] पक्षि, श्रेणी  
(महा)। २ पु एक विद्यार्थी का नाम (पद्य  
५, ६५)।

आवृत्तः स्त्री [आवृत्त] पक्षि, श्रेणी  
(राय)। २ क्रम, परिपाटी (मुञ १०)। ३

समय-विशेष, एक सूक्ष्म काल-परिमाण (भग

६, ७)। °पक्षि वृ [°पक्षि] श्रेणी से  
व्यवस्थित (मन)। °वाहिर वृ [°वाहिर]  
विपक्षी, श्रेणी-वद्ध नहीं रहा हुआ (भग)।  
आवृत्तः वि [आवृत्त] वेष्टित (सूत्रनि  
२००)।

आवृत्तः स्त्री [आवृत्त] १ पक्षि, श्रेणी  
(पाद्य)। २ रावण को एक कन्या का नाम  
(पद्य ६, ११)।

आवृत्तः सक [आ + वृ] रहना, वास  
करना। आवृत्तः (सूत्र १, १२)। वृत्त  
'आवृत्तः आवृत्तः वि' (मृष १, ६)।

आवृत्तः पु [आवृत्त] १ घर, आवृत्त,  
न्याय (सूत्र १, ८)। २ मठ, संन्यासियों  
का न्याय (परह, हे २, १८०)।

आवृत्तः पु [आवृत्त] १ गृहस्थ, गृही  
(सूत्र २, २)। २ संन्यासी (सूत्र २, ७)।

आवृत्तः वि [आवृत्त] श्रवण-कर्तव्य,  
आवृत्तः (जहा)। २ न सामयिकादि धर्मा-  
आवृत्तः (सूत्रान, नित्य-कर्म (उव, दस १०,  
एदि)। ३ जैन ग्रन्थ-विशेष, श्रवण-कर्म सूत्र  
(आवृत्त)। °पुत्रोप पु [°पुत्रोप] आवृ-  
त्त-कर्म सूत्र की व्याख्या (विश्व १)।

आवृत्तः पुन [आवृत्त] १—३ ऊपर  
देखो। ४ आवृत्त, आवृत्त (विश्व ८७४)।

आवृत्तः स्त्री [आवृत्त] सामाचारो-  
विशेष, जैन साधु का अनुष्ठान-विशेष (उत्त  
२६)।

आवृत्तः सक [आ + वृ] धारण करना,  
वहन करना; 'वेदोत्रि गृहपिसगो जइणो  
मुदन्म पंचमावृत्तः' (उव), 'एणो पूयण  
तवसा आवृत्तः' (सू १, ७)।

आवृत्तः वि [आवृत्त] धारण करनेवाला  
(आचा)।

आवृत्तः सक [आ + पा] १ पीना। २ नो  
में लाना, उपनोग करना। हेतु 'वत इच्छति  
आवेत, सेय ते मरणं भवे' (दस २, ५)।

आवृत्तः स्त्री [आवृत्त] प्रवान होम,  
'पद्युयाए पत्तवाइयाए' (स ७५७)।

आवृत्तः पु [आवृत्त] आवा, मिट्टी के पात्र  
पकाने का न्याय (उप ६५८, विश्व २५६  
दे)।

आवृत्तः पु [आवृत्त] मीलों की एक जाति, क्षिण

कानेए तेषु समण एत्तरद्धनरहे वाने वृहे  
आवादा एतम चिन्ताया पत्रिसति' (ज ३)।  
आवृत्त न [आवृत्त] दूतान, 'मित्राट  
आवाणमाड' (स ५३०)।

आवृत्त पुन [आवृत्त] अग्न्यागम, आगमन  
(पद्य ६१, ६१ दे)।

आवृत्त देखो आवाग (आ २३)।

आवृत्त पुं [आवृत्त] १ प्रारम्भ, शुरुआत  
(पाद्य, से ११, ७५)। २ प्रथम मेलन (ज  
५, १)। ३ तल्प, नुरत (आ २३)। ४  
पत्त, गिरना (आ २३)। ५ सम्बन्ध, संयोग  
(उव, कत)।

आवृत्त पु [आवृत्त] १ आवा, मिट्टी के पात्र  
पकाने का न्याय। २ आलवान। ३ प्रसेप,  
फेंकना। ४ शत्रु को चिन्ता। ५ वाना, वान  
(आ २३)।

आवृत्त न [आवृत्त] सम्पादन, (नमस  
१०६८)।

आवृत्त देखो आलवाल (धर्मवि १६, ११२)।  
आवृत्त } न [दे] जन के निकट का प्रदेश  
आवृत्त } (दे २, ७०)।

आवृत्त देखो आवाग = आवाप। °क्या स्त्री  
[°क्या] रमोई नम्बन्नीक्या, वि क्या-विशेष  
(ठा ५, २)।

आवृत्त पुं [आवृत्त] १ वास-न्याय (ठ ६;  
पाद्य)। २ निवास, अवन्याय, रत्ना (परह  
१, ८, श्रीप)। ३ पक्षि-गृह, नोड (वव १,  
१)। ४ पदान, हेन (मुपा २५६, उव पु  
१३०)। °पत्र्य पु [°पत्र्य] रहने का  
पत्र्य (इक)।

आवृत्त } देखो आवृत्तः = आवृत्तः (वि  
आवासग } ३४८, श्रीप ६३८, विश्व ८५०)।

आवृत्तः स्त्री [आवृत्त] आवाग-  
न्याय (स १२२)।

आवृत्त न [आवृत्त] १ आवृत्तः,  
जहरी। २ नित्य-कर्तव्य धर्मानुष्ठान (हे १,  
४३, विश्व ८५८)। ३ पुं पक्षि-गृह, नोड  
(वव १, १)। ४ वि सस्कारायायक, वासक।  
५ आच्छादक (विश्व ८७५)।

आवृत्त वि [आवृत्त] रहनेवाला,  
'एतनियावात्ता' (उव)।

आवृत्त वि [आवृत्त] सनिवेशित,  
पदाव डाला हुआ (मुपा १५६, नुर २, १)।

आवाह सक [आ + वाह्य] १ सान्निव्य के लिए देव या देवाधिष्ठित चीज को बुलाना । २ बुलाना । ३ सक आवाहिवि (अप) (भवि) ।

आवाह पु [आवाध] पीढा, बाबा (विपा १, ६) ।

आवाह पुं [आवाह] १ नव-परिणीता वधु को घर के घर लाना (परह २, ४) । २ विवाह के पूर्व किया जाता पान देने का एक उत्सव (जीव ३) ।

आवाहण न [आवाहन] ग्राह्य (विसे १८८३) ।

आवाहिवि [आवाहित] १ बुलाया हुआ, ग्राह्य (भवि) । २ मदद के लिए बुलाया हुआ देव या देवाधिष्ठित वस्तु, 'एव च भणंति ए आवाहियाइं सत्याइ' (सुर ८, ४२) ।

आवि न [दे] १ प्रसव-पीडा । २ वि नित्य, शाश्वत । ३ दृष्ट, देखा हुआ (दे १, ७३) ।

आवि अ [चापि] समुच्चय-यौतक अव्यय (कम्प) ।

आवि अ [आविस्] प्रकटता-सूचक अव्यय (सुर १४, २११) ।

आविअ सक [आ + पा] पीना, 'जहा दुमल्ल पुफेमु ममरो आविअइ रस' (दस १, २) ।

आविअ वि [आवृत] आच्छादित (से ६, ६२) ।

आविअ पु [दे] १ इन्द्रगोप, सुदृढ कीट-विशेष । २ वि मथित, आलोडित (दे १, ७६) । ३ प्रोत (दे १, ७६, पात्र, पङ्) ।

आविअ वि [आविच] अविच-देशोत्पन्न (राय) ।

आविअज्जा स्त्री [दे] १ नवोढा, दुलहिन । २ परतन्त्रा, पराधीन स्त्री (दे १, ७७) ।

आविध सक [आ + व्यध] १ विवना । २ पहनना । ३ मन्त्र से अवीन करना । आविध (आक ३८) । आविधामो (पि ४८९), 'पालव वा सुवरणसुत वा आविधेज पिण्णिजेज वा' (आचा २, १३, २०) । कर्म आविध्कइ (उव) ।

आविधण न [आव्यधन] १ पहनना । २ मन्त्र से आविष्ट करना, मन्त्र से अवीन करना (परह १, २, आक ३८) ।

आविकम्म पुंन [आविष्कर्मन्] प्रकट-कर्म, प्रकट रूप से किया हुआ काम (आचा २, १५, ५) ।

आविग्ग वि [आविग्ग] उद्विग्न, उदासीन (से ६, ८६, १३, ६३, दे ७, ६३) ।

आविट्ठ वि [आविष्ट] १ आवृत, व्याप्त (सम ५१, मुपा १८७) । २ प्रविष्ट (सूत्र १, ३) । ३ अधिष्ठित, आश्रित (ठा ५, भास ३६) ।

आविट्ठ वि [आविष्ट] भूत आदि के उपद्रव से युक्त (सम्मत १७३) ।

आविट्ठ वि [आविट्ठ] परिहित, पहना हुआ (कम्प) ।

आविट्ठ वि [दे] क्षिप्त, प्रेरित (दे १, ६३) ।

आविठ्ठान् पुं [आविठ्ठान्] १ उत्पत्ति । २ प्रादुर्भाव, अभिव्यक्ति, 'आविठ्ठान्तिरोभाव-मेतपरिणामिदव्वमेवाय' (विसे) ।

आविठ्ठान् वि [आविठ्ठान्] १ उत्पन्न । २ प्रादुर्भूत (कम्प) । ३ अभिव्यक्त (सुर १४, २११) ।

आविल वि [आविल] १ मलिन, भ्रष्टच्छ (सम ५१) । २ आकुल, व्याप्त (सूत्र १, १५) ।

आविलिअ वि [दे] कुपित, क्रुद्ध (पङ्) ।

आविलुपिअ वि [आविच्छित्त] अभिलपित (दे १, ७२) ।

आविस सक [आ + विश्] प्रवेश करना, घुसना । आविसेइ (सम्मत १७३) ।

आविस अक [आ + विश्] १ सबद्ध होना युक्त होना । २ सक, उपभोग करना, सेवना; 'परदारमाविसामित्ति' (विसे ३२५६),

'ज ज समय जीवो, आविसई जेण जेण भावेण । सो तम्मि तम्मि समय, सुहासुह ववए कम्म' (उव)

आविहव अक [आविर् + भू] १ प्रकट होना । २ उत्पन्न होना । आविहवइ (स ४८) ।

आविहूअ देखो आविठ्ठान् (स ७१८) ।

आवी देखो आवि = आविस्, 'आवी वा जइ वा र्हस्से' (उत्त १, १७, सुख १, १७) ।

°कम्म देखो आविकम्म (आचा २, १५, ५) ।

आवीअ वि [आपीत] १ पीत । २ शोपित (से १३, ३१) ।

आवीइ वि [आवीचि] निरन्तर, अविच्छिन्न,

'गन्मप्पमिइमावीइत्तलिलच्छेए सर व सूसत्तं । अणुसमयं मरमाणे, जीयंति जणो कइं भणइ ?' (सुपा ६५१) ।

°मरण न [°मरण] मरण-विशेष (भग १३, ७) ।

आवीकम्म न [आविष्कर्मन्] १ उत्पत्ति । २ अभिव्यक्ति (ठा ६, कम्प) ।

आवीड सक [आ + पीड] १ पीडना । २ दवाना । आवीडइ (सण) ।

आवीण न [आपीन] स्तन, थन (गउड) ।

आवील देखो आमेल = आपीड (स ३१५) ।

आवील देखो आवीड । सक आवीलियाण (आचा २, १, ८, १) ।

आवीलण न [आपीडन] समूह, निचय (गउड) ।

आवुअ पु [आवुक] नाटक की भाषा में पिता, बाप (नाट) ।

आवुण्ण वि [आपूर्ण] पूर्ण, भरपूर (दे २, १०२) ।

आवुत्त पु [दे] भगिनी-पति (अभि १८३) ।

आवुद वि [आवृत] ढका हुआ (प्राक ८, १२) ।

आवुदि स्त्री [आवृति] आवरण (प्राक ८, १२) ।

आवूर देखो आपूर = आ + पूर्य् । वक्क आवूरेंत (पउम ७६, ८) । कवक्क आवूरिज्ज-माण (स ३८२) ।

आवूरण न [आपूरण] पूर्ति (स ४३६) ।

आवूरिय देखो आऊरिय (पउम ६४, ५२, स ७७) ।

आवेअ सक [आ + वेदय्] १ विनति करना, निवेदन करना । २ बतलाना । आवे-एइ (महा) ।

आवेअ पु [आवेग] कष्ट, दुख (से १०, ५७, ११, ७२) ।

आवेअ देखो आवा ।

आवेइइय वि [आवेष्टित] वेष्टित, चिरा हुआ (गा २८) ।

आवेइ १ देखो आमेल (हि २, २३४, आवेइय १ कुमा) ।

आवेइ पु [आवेष्ट] १ वेष्टन । २ मण्डलाकार-करना (से ७, २७) ।

आवेढण न [आवेण] ऊपर देखो (गउड, पि ३०४)।

आवेढिय वि [आवेष्टित] १ चारों ओर से वेष्टित (भग १६, ६, उप पृ ३०७)। २ एक वार वेष्टित (ठा)।

आवेयण न [आवेदन] निम्न, मनो-भाव का प्रकाश-करण (गउड, दे ७, ८७)।

आवेचअ वि [दे] १ विशेष ग्रामक्त। २ प्रवृद्ध, बड़ा हुआ (पह)।

आवेस सक [आ + वेअ] भूताविष्ट करना। सक आवेसिऊण (स ६४)।

आवेस पु [आवेश] १ अभिनिवेश। २ जोर। ३ भूतग्रह। ४ प्रवेग (नाट)।

आवेमण न [आवेशन] शून्यगृह, 'आवेमण-सनापवानु पणियसालानु एगया वामो' (आचा)।

आस देखो अरस = अन्न (प्राक २६)।

आस अक [आस्] बैठना। वहु 'अजय आसमाणो व पाणभूयाई हिंसड' (दस ४)। हेहु आसित्तण, आमइत्तण, आसइत्तु (पि ५७८, कम, दस ६, ५४)।

आस पु [अश्व] १ अश्व, घोडा (शाया १, १७)। २ देव-विशेष, अश्विनी नक्षत्र का अश्वि-प्रायक देव (ज)। ३ अश्विनी नक्षत्र (चद २०)। ४ मन, चित्त (परण २)। ५ कण्ठ, कंठ पु [कर्ण] १ एक अन्तर्द्वीप। २ उसका निवासी (ठा ४, २)। ३ गीघ पु [ग्रीघ] एक प्रसिद्ध राजा, पहला प्रतिवामुदेव (पठम ५, १५६)। ४ तर पु [तर] खबर (श १८)। ५ थ्याम पु [स्थ्यामन्] द्रोणाचार्य का प्रत्यात पुत्र (कुमा)। ६ अ पु [ध्वज] विद्यावर वश का एक राजा (पठम ५, ४२)। ७ धम्म पु [धर्म] देखो पूर्वोक्त अर्थ (पठम ५, ४२)। ८ धर वि [धर] अश्वो को धारण करनेवाला (श्रीप)। ९ पुर न [पुर] नगर-विशेष (इक)। १० पुरा, पुरी स्त्री [पुरी] नगरी-विशेष (कस, ठा २, ३)। ११ मक्खिया स्त्री [मक्खिका] चतुर्दिन्द्रिय जीव-विशेष (श्रीव ३६७)। १२ मद्ग, मद्दय पुं [मर्दक] अश्व का मर्दन करनेवाला (शाया १, १७)। १३ मित्त पुं [मित्त] एक जैनाभास दार्शनिक, जो महागिरि के शिष्य कौरिण्ड्य का शिष्य था और जित्ते

सामुच्छेदिक पय चत्ताया वा (ठा ७)। १० मुह पुं [मुख] १ एक अन्तर्द्वीप। २ उसका निवासी (ठा ८, २)। ३ मह पु [मेव] यज्ञ-विशेष (पठम ११, ४२)। ४ रह पु [रव] घोडा-भाडो (शाया १, १)। ५ धारण पु [धार] घुड-सवार, घुड-चढैया (नुपा २१८)। ६ वाह-णिया स्त्री [वाहणिका] घोडे की सवारी, घोडे पर सवार होकर फिरना (विपा १, ६)। ७ सेण पुं [सेन] १ नावानु पावनाय के पिता (कप)। २ पंचवें चक्रवर्ती का पिता (सम १५२)। ३ रोह पुं [रोह] घुड-नवार, घुड-चढैया (मे १२, ६६)।

आम पुस्त्री [आण] भोजन, 'सामासाए पाय-रानाए' (सूत्र २, १)।

आस पु [आस] क्षेपण, फेंकना (विसे २७६५)।

आस न [आर्य] मुड, मुँह (शाया १, ८)। आसइ वि [आशयिन] आशय-न्वित, 'यमा-सइणी जाया सा देवी सालभजिव्व' (धर्मवि १४७)।

आसक सक [आ + शक] १ संदेह करना, सशय करना। २ अश्व भयभीत होना। आसकइ (स ३०)। वहु आमकत, आम-कमाग (नाट, माल ८३)।

आसका स्त्री [आशङ्का] शङ्का, भय, वहम, सशय (सुर ६, १२१, महा, नाट)।

आसकि वि [आशङ्किन] आशङ्का करने-वाला (गा २०५)।

आमकिय वि [आशङ्कित] १ सदिग्ध, सशयिन। २ सनाकिन (महा)।

आसकिर वि [आशङ्कित] आशका करने-वाला, वहमी (सुर १४, १७, गा २०६)।

आसग पु [दे] वाम-गृह, शय्या-गृह (दे १, ६६)।

आसंग पुं [आसङ्ग] १ आसक्ति, अभिप्रेम। २ सवन्व। (गउड)। ३ रोग (आचा)।

आसगि वि [आसङ्गिन] १ आनक। २ सवन्वी, सयोगी (गउड)। स्त्री ३ णी (गउड)।

आसघ सक [सं + भावय] १ समावना करना। २ अव्यवसाय करना। ३ स्थिर करना, निश्चय करना। आसघइ (मे १५, ६०)। वहु आसंघंत (मे १५, ६२)।

आसंग पुं [दे] १ अश्व, निरवास (नुपा ५२६; पद्)। २ अव्यवसाय, परिणाम (से १, १५)। ३ आशय, इच्छा, चाह (गउड)।

आसघा स्त्री [दे] १ इच्छा, वाञ्छा (दे १, ६३)। २ आसक्ति (मे २)।

आमंघिय वि [दे] १ अध्ययनित। २ अश्व-वारित (मे १०, ६६)। ३ संभावित (कुमा, स १३७)।

आमजिय वि [आसक्त] पीछे लगा हुआ (सुर ८, ३०, उत्तर ६१)।

आमंघ्य न [आमन्धक] आनन-विशेष (आचा, महा)।

आसुदय पुन [आमन्धक] आनन-विशेष, मंच (सुव ६, १)।

आमंघण न [आसन्धान] अवट्मन, अश्व-रोष, खान्ध (गउड)।

आसदिआ स्त्री [आसन्दिना] छोटा मञ्च (सूत्र १, १, २, १५, गा ६६७)।

आमन्दी स्त्री [आसन्दी] आनन-विशेष, मञ्च (सूत्र १, ६, दस ६, ५४)।

आसवी स्त्री [अश्वगन्वी] वनस्पति-विशेष (नुपा ३२८)।

आसवर वि [आशाम्वर] १ दिग्मन्वर, नग्न (प्रासा)। २ जैन का एक मुख्य भेद। ३ उसका अनुयायी (स २)।

आससइय वि [असगयित] सशय-रहित (सूत्र २, २, ६६)।

आमंमण न [आग्रमन] इच्छा, अभिनाया (भास ६५)।

आससा स्त्री [आगसा] अभिनाया, इच्छा (आचा)।

आससि वि [आगसिन] अभिनायी, इच्छा करनेवाला (आचा)।

आससिअ वि [आशसित] अभिलपित (गा ७६)।

आसकरय पु [दे] प्रशस्त पक्षि-विशेष, श्रीवद (दे १, ६७)।

आसग देखो आस = अश्व (शाया १, १२)। आसगलिअ वि [दे] आक्रान्त, 'आसगलिअो तिक्कम्मपरिणइए' (स ४०४)।

आसगलिअ वि [दे] प्राप्त, 'एव विसयविनुद-चित्तेण खविओ कम्मसंघाओ, आसगनियं चोषिवीय' (स ६७६)।

आसज्ज भ [आसाद्य] प्राप्त करके (विसे ३०) ।

आसड पुं [आसड] विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का स्वनाम-ख्यात एक जैन ग्रन्थकार (विसे १४३) ।

आसण न [आसन] १ जिमपर बैठा जाता है वह चौकी आदि (श्राव ४) । २ स्थान, जगह (उत्त १, १) । ३ शय्या (श्राचा) । ४ बैठना, उपवेशन (ठा ६) ।

आसणिय वि [आसनित] आसन पर बैठाना हुआ (स २६२) ।

आसण्ण न [आसन्न] १ समीप, पास । २ वि समीपस्थ (गठ) । देखो आसन्न ।

आसत्त वि [आसक्त] लीन, तत्पर (महा, प्रासू ६४) ।

आसत्त वि [आसक्त] १ नीचे लगा हुआ (राय ३५) । २ पुं नपुंसक का एक भेद, वीर्यपात होने पर भी स्त्री का आलिंगन कर उनके कक्षादि अंगों में जुड़कर सोनेवाला नपुंसक (पव १०६) ।

आसत्ति स्त्री [आसक्ति] अभिष्वङ्ग, तल्लीनता (कुमा) ।

आसत्थ पुं [अश्वत्थ] पीपल का पेड़ (पञ्चम ५३, ७६) ।

आसत्थ वि [अश्वत्थ] १ आश्वत्थ-प्राप्त, स्वस्थ । २ विश्रान्त (राया १, १, सम १५२, पञ्चम ७, ३८, दे ७, २८) ।

आसन्न देखो आसण्ण (कुमा, गठ) । ० वृत्ति वि [वर्तिन्] नजदीक में रहनेवाला (सुपा ३५१) ।

आसम पु [आश्रम] तापस आदि का निवास स्थान, तीर्थ-स्थान (परह १, ३, श्रौप) । २ ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और भैक्ष्य (मन्याम) ये चार प्रकार की अवस्था (पचा १०) ।

आसमपय न [आश्रमपद] तापसों के आश्रम से उपलब्ध स्थान (उत्त ३०, १७) ।

आसमि वि [आश्रमिन] आश्रम में रहनेवाला, ऋषि, मुनि वगैरह (पंचव १) ।

आसय अक [आस्] बैठना । आसयति (जीव ३) ।

आसय सक [आ + शी] १ आश्रय करना,

अवलम्बन करना । २ ग्रहण करना । आसयइ (कप्) । वक्तु आसयंत (विसे ३२२) ।

आसय पुं [आशक] खानेवाला (श्राचा) । आसय पुं [आश्रय] आवार, अवलम्बन (उप ७१४, सुर १३, ३६) ।

आसय पु [आशय] १ मन, चित्त, हृदय (सुर १३, ३६, पात्र) । २ अभिप्राय (सूत्र १, १५) ।

आसय न [दे] निकट, नमीप (दे १, ६५) । आसरिअ वि [दे] समुख-आगत, सामने आया हुआ (दे १, ६६) ।

आसव अक [आ + स्तु] धीरे-धीरे करना, टपकना । वक्तु आसावमाण (श्राचा) ।

आसव सक [आ + स्तु] आना, आसवदि जेण कम्म परिणामेणण्यणो स विण्णोओ भावसवो (द्रव्य २६) ।

आसव पु [आश्रव] सूक्ष्म छिद्र, देखो, 'सयासव' (भग १, ६) ।

आसव पु [आसव] मद्य, दारु (उप ७२८ टी) ।

आसव पु [आश्रव] १ कर्मों का प्रवेश-द्वार, जिससे कर्मबन्ध होता है वह हिंसा आदि (ठा २, १) । २ वि श्रोता, गुरु-वचन को सुननेवाला (उत्त १) । ० सक्ति वि [सक्तिन्] हिंसादि में आसक्त (श्राचा) ।

आसवण न [दे] वान-गृह, शय्या-घर (दे १, ६६) ।

आसवाहिया स्त्री [अश्ववाहिका] अश्व-स्त्रीडा (धर्मवि ४) ।

आसाअ सक [आ + साद्य] स्पर्श करना, छूना । आसाएजा । वक्तु आसायमाण (श्राचा २, ३, २, ३) ।

आसस अक [आ + श्वस्] आश्वसन लेना, विश्राम लेना । आससइ, आससमु (पि ८८, ४६६) ।

आससण न [आशसन] विनाश, हिंसा (परह १, ३) ।

आससा स्त्री [आशसा] अभिलाषा, 'जेति तु परिमाण, त दुट्ठं आससा हाइ' (विसे २५१६) । आससिय वि [अश्वस्त] आश्वसन-प्राप्त (स ३७८) ।

आसा स्त्री [आशा] १ आशा, उम्मीद (श्रौप, से १, २६, सुर ३, १७७) । २ दिशा (उप

६४८ टी) । ३ उत्तर रुचक पर बसनेवाली एक दिक्कुमारी, देवी-विशेष (ठा ८) ।

आसाअ सक [आ + स्वाद्] स्वाद लेना, चखना, खाना । आसायति (भग) । वक्तु आसाअत, आसाएत, आसायमाण (नाट, से ३, ४- राया १, १) ।

आसाअ सक [आ + साद्य] प्राप्त करना । वक्तु आसाएत (से ३, ४५) ।

आमाअ सक [आ + शातय्] अवज्ञा करना, अपमान करना । आसाएजा (महानि ५) । वक्तु आसायत, आसाएमाण (श्रा ६, ठा ४) ।

आसाअ पु [आस्वाद] १ स्वाद, रस (गा ५६३, से ६, ६८, उप ७६८ टी) । २ वृत्ति (से १, २६) ।

आसाअ पु [आऽस्वाद] स्वाद का विलकुल अभाव (तंदु ४५) ।

आसाअ देखो आसय = आश्रय (तंदु ४५) । आसाअ पु [आसाद्] प्राप्ति (से ६, ६८) ।

आसाइअ वि [आशातित] १ अवज्ञात, तिरस्कृत (पुष्प ४५४) । २ न अवज्ञा, तिरस्कार (विसे ६२) ।

आसाइअ वि [आस्वादित] चखा हुआ, थोड़ा खाया हुआ (मे ५, ४६) ।

आसाइअ वि [आसादित] प्राप्त, लब्ध (हेका ३०, भवि) ।

आसाड पु [आपाड] १ आसाड मास (सम ३६) । २ एक निहव, जो अग्न्यक्तिक मत का उत्पादक था (ठा ७) । ० भूइ पु [भूति] एक प्रसिद्ध जैन मुनि (कुम्मा २६) ।

आसाढा स्त्री [आपाढा] नक्षत्र-विशेष (ठा २) ।

आमाढी स्त्री [आपाढी] आपाड मास की पूर्णिमा (सुज) ।

आसाढी स्त्री [आपाढी] १ आपाड मास की पूर्णिमा । २ आपाड मास की अमावस (सुज १०, ६) ।

आसादेत्तु वि [आस्वादयित्] आस्वादन करनेवाला (ठा ७) ।

आसामर पु [आशामर] सातवें वासुदेव और बलदेव के पूर्वभवीय धर्मगुरु का नाम (सम १५३) ।



आसायण न [आस्वादन] स्वाद लेना, चखना (पद्य २२, २७, साया १, ६, मुपा १०७)।  
 आसायण न [आशातन] १ नीचे देखो (विदे ६६)। २ अनन्तानुबन्धि कपाय का वेदन (विसे)।  
 आसायणा स्त्री [आशातना] विपरीत वर्तन, अपमान, तिरस्कार (पहि)।  
 आसार सक [आ + मारय्] तंदुरस्त करना, वीणा को ठीक करना। मङ्क आसारेऊण (मिदि ७६४)।  
 आसार पु [आसार] समीकरण, वीणा को ठीक करना (कुप्र १३६)।  
 आसार पु [आसार] वेग में पानी का बरसना, (से १, २०, मुपा ६०६)।  
 आसारिय वि [आसारित] ठीक किया हुआ, 'आसारिया कुमारंग वीणा' (कुप्र १३६)।  
 आसारिय पुत्री [आशालिक] १ सर्प की एक जाति (पद्य १, १)। २ स्त्री विद्या-विशेष (पद्य १२, ६४, ५२, ६)।  
 आसावल्ली स्त्री [आशापल्ली] एक नगरी (ती १५)।  
 आसावि वि [आसाविन] भरनेवाला, सन्धिद्र (सूत्र, १, ११)।  
 आसाम सक [आ + आस्] आशा करना, उम्मीद रखना। आसामदि (वेगी ३०)।  
 आसाम सक [आ + आसामय्] आरवान देना, मानवना करना। आसामइ (ववा १६)। वङ्क आसासत, आमासित (से ११, ८७, आ १२)।  
 आसास पु [आश्वास] १ आरवानन, सान्त्वना (श्राव ७३, मुपा ८३, उप २६०)। २ विद्याम (ठा ४, ३)। ३ द्वीप-विशेष (आचा)।  
 आसासअ पुं [आश्वासक] विद्याम-स्थान, ग्रन्थ का अर्थ, परिच्छेद, अव्याय (से २, ४६)। २ वि. आश्वासन देनेवाला, 'नारण आमासय सुमितुव्व' (पुष्क ३८)।  
 आसासग पुं [आशासक] वीजक-नामक वृक्ष (श्रीप)।  
 आसासण न [आश्वासन] १ सान्त्वना, दिलासा (मुर ६, ११०, १२, १५, उप पु ५७)। २ ग्रहों के देव-विशेष (ठा २, ३)।

आसामण पु [आश्वासन] १ एक महाग्रह (मुज २०)। २ वि. आश्वासन-दाता (कुप्र ११०)।  
 आमासिअ वि [आश्वासित] जिसको आश्वासन दिया गया हो वह (से ११, १३६, मुर ४, २८)।  
 आसि सक [आ + शि] आश्रय करना। संक. आसिज्ज (धारा ६६)।  
 आसि देखो अस = अस्।  
 आसि वि [आशिन] खानेवाला, भोजक (सद्धि १३)।  
 आसिअ वि [आशिक] अश्व का शिक्षक, 'दुद्धु वि य जो आसे दमेइ तं आसिय विति' (वव ४)।  
 आसिअ वि [आशित] खिलाया हुआ, भोजित (से ८, ६३)।  
 आसिअ वि [आशित] आश्रय-प्राप्त (कम्प, मुर ३, १७, ने ६, ६५, विसे ७५६)।  
 आसिअ वि [आसित] १ उपविष्ट, बैठा हुआ (से ८, ६३)। २ रखा हुआ, स्थित (पद्य ३२, ६६)।  
 आमिअ देखो आसित्त (साया १, १, कम्प, श्रीप)।  
 आसिअअ वि [दे] लोहे का, लोह-निर्मित (दे १, ६७, सूत्र क० चूर्णो नू० गा २८५)।  
 आसिआ स्त्री [आसिका] वैठना, उपवेशन (से ८, ६३)।  
 आसिआ देखो आमी = आशिप् (पड्)।  
 आसिच सक [आ + सिच्] सीचना। कर्म आसिच्चत (वेइय १५१)।  
 आसिण वि [आशिन] खानेवाला, भोजक, 'मसासिणस्स' (पद्य २६, ३७)।  
 आमिण पुं [आशिन] आशिन मास (पाय)।  
 आसित्त वि [आसित्त] १ थोड़ा सिक्त (भग ६, ३३)। २ सिक्त, सींचा हुआ (आवम)। ३ पु नपुसक का एक मेद (पुष्क १२८)।  
 आसित्तिया स्त्री [दे] वाद्य-विशेष, 'विसा-हाहि आसित्तियाओ भोम्भा क्व सार्वति' (मुज १०, १७)।  
 आसियावाय देवो आसीवाय (सूत्र १, १४, १६)।

आसिल पु [आमिल] एक महर्षि (सूत्र १, ३, ४, ३)।  
 आमिलिट्टु वि [आशिलट्ट] आनिगित (नाट)।  
 आसिलिस सक [आ + शिलप्] आनिगन करना। हेक्क आलेट्टुअ, आलेट्टु (हे २, १६४)।  
 आसिसा देवो आसी = आशिप् (महा; अमि १३३)।  
 आमी देखो अस् = अस्।  
 आमी स्त्री [आशी] दाढ़ा (विमे)। °विस पुं [°विप] १ जहरिला सप, 'आमी दाढा तग्गयविमासीविना मुण्णोयव्वा' (जोव १ टी; प्रामू १२०)। २ पर्वत-विशेष का एक शिखर (ठा २, ३)। ३ निग्रह और अनुग्रह करने में नमर्थ, लवि विशेष को प्राप्त (भग ८, १)।  
 आमी स्त्री [आशिप्] आशीर्वाद (मुर १, १३८)। °वणण न [°वचन] आशीर्वाद (मुपा ४६०)। °वाय पुं [°वाड] आशीर्वाद (मुर १२, ४३, मुपा १७४)।  
 आसीण वि [आमीन] बैठा हुआ, 'नमिऊण आनीणा तओ' (वनु)।  
 आसीयअ पु [दे] दरजी, कपड़ा नीनेवाला (दे १, ६६)।  
 आसीसा देवो आसी = आशिप् (पड्)।  
 आसु पुन [अशु] आसू (नदि १७)।  
 आसु } अ [आशु] शीघ्र, तुरत, जल्दी (साव  
 आसु } १८, महा; काल)। °कार पु [°कार] १ हिंसा, मारना। २ मरने का कारण, विसू-चिवा वगैरह (आव)। ३ शीघ्र उन्मत्त, 'आनुकारे मरणे, अच्चिन्नाए य जीवियानाए' (आउ ६)। °पणण वि [°प्रज्ञ] १ शीघ्र-बुद्धि। २ दिव्य-ज्ञानी, केवल-ज्ञानी (सूत्र १, ६, १४)।  
 आसुर वि [आसुर] असुर-सबन्धी (ठा ४, ४, आउ ३६)।  
 आसुरत्त न [आसुरत्व] श्लेषित, उष्ण (वन ८, २५)।  
 आसुरिय पु [आसुरिक] १ अनुर, अनुर रूप से उपपन्न (राज)। २ वि. अनुर-सबन्धी (सूत्र २, २, २७)।  
 आसुरीय वि [असुरीय] अनुर-सबन्धी,

‘आसुरीय दिवं वाला गच्छंति श्रवसातम’ (उत्त ७, १०) ।  
 आसुरुत्त वि [आशुरुत्त] १ शीघ्र क्रुद्ध । २ शक्ति कुपित (राया १, १) ।  
 आसुरुत्त वि [आसुरोक्त] शक्ति कुपित (राया १, १) ।  
 आसुरुत्त वि [आशुरुत्त] शक्ति-कुपित (विपा १, ६) ।  
 आसूणि न [आशूनिन्] १ वलिष्ठ बनाने-वाली सुराक । २ रसायन-क्रिया (सूत्र १, ६) ।  
 आसूणां स्त्री [आशूनी] ग्लाघा, प्रशमा (सूत्र १ ६, १५) ।  
 आसूणिय वि [आशूनित] थोडा स्थूल किया हुआ (परह १, ३) ।  
 आसूय न [दे] श्रौपयाचितक, मनौती (पिड ४०५) ।  
 आसेअणय वि [आसेचनक] जिसको देखने से मन को वृत्ति न होती हो वह (दि १, ७२) ।  
 आसेव सक [आ + सेव्] १ सेवना । २ पालना । ३ आचरना । आसेवए (प्राप ६७) ।  
 आसेवण न [आसेवन] १ परिपालन, सरक्षण (सुपा ४३८) । २ आचरण (स २७१) । ३ मैथुन, रतिवमोग (दसत्त १, पव १७०) ।  
 आसेवगया स्त्री [आसेवना] १ परिपालन आसेवणा (सूत्र १, १४) । २ विपरीत आचरण (पव) । ३ श्रम्यास (आत्त) । ४ शिखा का एक भेद (धर्म ३) ।  
 आसेवा स्त्री [आसेवा] ऊपर देखो (सुपा १०) ।  
 आसेविप्र वि [आसेवित] १ परिपालित । २ श्रम्यस्त (आचा) । ३ आचरित, अनुष्ठित (स ११८) ।  
 आसोअ पुं [अश्वयुक्] आश्विन मान (स्यण ३६) ।  
 आसोअ वि [आशोक] अशोक वृक्ष सवन्धी (गड्ड) ।  
 आसोइया स्त्री [दे. आसोतिक्का] श्रोपवि-विरोप, ‘आसोइयाइमीस चोलं घुत्तिण कुमुमम-मीस’ (सुपा ३६७) ।  
 आसोई स्त्री [आश्वयुजी] आश्विन पूर्णिमा (इक) ।

आसोई स्त्री [आश्वयुजी] १ आश्विन आसोया } मास की पूर्णिमा । २ आश्विन मास की अमावस (सुज १०, ७, -६) ।  
 आसोकता स्त्री [आरोकान्ता] मव्यम ग्राम की एक मूच्छंता (ठा ७) ।  
 आसोत्य पु [अश्वत्थ] पीपल का पेड़, (परण १, उप २३६) ।  
 आह सक [वृन्] कहना । भूका—आहनु, आहु (कप्प) ।  
 आह सक [काडत्त] चाहना, इच्छा करना । आहइ (हे ४, १६२, पड्) । वक्तु आहत (कुमा) ।  
 आहंडल देखो आखंडल (हम्मीर १५) ।  
 आहतु देखो आहण ।  
 आहच्च भ्र [दे] १ श्रयया । २ निष्कारण (वव १) । भाव पु [भाव] कदाचित्कता (पव १०७ टी) ।  
 आहच्च न [दे] १ श्रययं, बहुत, श्रतिगय (दे १, ६२) । २ श्र शीघ्र, जल्दी (आचा) । ३ कदाचित्, कभी (भग ६, १०) । ४ उप-स्थित होकर (आचा) । ५ व्यवस्था कर (सूत्र २, १) । ६ विभक्त कर (आचा) । ७ छीन कर (दसा) ।  
 आहच्चा स्त्री [आहत्या] प्रहार, आघात (भग १५) ।  
 आहट्ट न [दे] देखो आहट्टु = दे (पव ७३ टी) ।  
 आहट्टु स्त्री [दे] प्रहेलिका, पहेलियां, बुझी वल, तिसु न विम्हयइ सयं आहट्टुक्कुहेइएहि वं (पव ७३) ।  
 आहट्टु देखो आहर = आ + ह ।  
 आहड [आहत] १ छीन लिया हुआ । २ चोरी किया हुआ (सुपा ६४३) । ३ सामने लाया हुआ, उपस्थापित (स १८८) ।  
 आहड न [दे] सीकार, सुरत शब्द (पड्) ।  
 आहण सक [आ + हन्] आघात करना, मारना । आहणामि (पि ४६६) । सक आहणिय, आहणियण, आहणित्ता (पि ५६१, ५८५, ५८२) । हेक्क आहतु (पि ५७६) ।  
 आहण सक [आ + हन्] उठाना । सक आहु [ह] गिय (राय १८, २१) ।  
 आहणण न [आहनन] आघात (उप ३६६) ।

आहणाधिय वि [आघातित] आहत कराया हुआ (स ५२७) ।  
 आहत्तहीय न [याथावथ्य] १ यथावस्थित-पन, वास्तविकता । २ तथ्य-मार्ग—सम्यग्ज्ञान आदि । ३ ‘सूत्रकृताङ्ग’ सूत्र का तेरहवाँ अध्यायन (सूत्र १, १३, पि ३३५) ।  
 आहम्म सक [आ + हम्म] आना, आगमन करना । आहम्मइ (हे ४, १६२) ।  
 आहम्मिअ वि [अवार्मिक] श्रवमं-सवन्धी (दम ८, ३१) ।  
 आहम्मिय वि [अवार्मिक] श्रवमों, पापी (नम ५१) ।  
 आहय वि [आहत] आघात प्राप्त, प्रेरित (कप्प) ।  
 आहय वि [आहन] १ आकृष्ट, खींचा हुआ । २ छीना हुआ (उप २११ टी) ।  
 आहर नक [आ + ह] १ छीनना, खींच लेना । २ चोरी करना । ३ खाना, भोजन करना । आहरइ (पि १७३) । कवक्क आहरिज्जमाण (ठा ३) । सक आहट्टु (पि २८६) । हेक्क आहरित्तए (तदु) ।  
 आहर सक [आ + ह] लाना । आहराहि (सूत्र १, ४, २, ४), आहरेमो (सूत्र २, २, ५५) ।  
 आहरण पुन [आहरण] १ उदाहरण, दृष्टान्त (श्रोष ५३६, उप २६३, ६५१) । २ आह्वान, बुलाना (सुपा ३१७) । ३ ग्रहण, स्वीकार । ४ व्यवस्थापन (आचा) । ५ आनयन, लाना (सूत्र २, २) ।  
 आहरण पुन [आभरण] भूषण, श्रलकार, ‘देहे आहरणा वहू’ (आ १२, कप्प) ।  
 आहरणा स्त्री [दे] खरटि, नाक का खरखर शब्द (श्रोष २) ।  
 आहरिसिय वि [आवपित] तिरस्कृत, भस्वित, ‘आहरिसियो ह्मो समतेण नियन्तिओ’ (आवम) ।  
 आहए (अप) अक [आ + चल्] हिलना, चलना, ‘नवमइ दतपतो आहएइ, खलइ जीहा’ (भवि) ।  
 आहए स्त्री [आहत्या] विद्याधर-राज की एक कन्या (पठम १३, ३५) ।  
 आहव सक [आ + ह्वे] बुलाना । आहवसु

(धर्मवि ८) । संकृ. आहविउ, आहविऊण  
(धर्मवि ६८, सम्मत २१७) ।  
आहव पुं [आहव] युद्ध, लड़ाई (पाम्र, सुपा  
२८८, आरा ४१) ।  
आहवण } न [आह्वान] १ बुलाना ।  
आहव्वण } २ ललकारना (आ १२, सुपा  
६०, पञ्च ६१, ३०, स ६४) ।  
आहविअ देखो आहूअ = आहूत (ती ४) ।  
आहव्व वि [आभाव्य] शाब्दिक क्षेपदि  
(पंचा ११, ३०, पव १०५) ।  
आहव्वणी स्त्री [आह्वानी] विद्या-विशेष  
(सूत्र २, २) ।  
आहा मक [आ + ख्या] कहना । कर्म  
आहिव्वइ (पि ५४५), आहिव्वंति (कप्प) ।  
आहा सक [आ + घा] स्थापन करना ।  
कर्म आहिव्वइ (सूत्र २, २) । हेक आहेउ  
(सूत्र १, ६) । संकृ. आहाय (उत्त ५) ।  
आहा स्त्री [आभा] कान्ति, तेज (कप्प) ।  
आहा स्त्री [आधा] १ आश्रय, आवार (पिड) ।  
२ माधु के निमित्त आहार के लिए मन-  
प्रणिवान (पिड) । ३ कड वि [कृत] आवा-  
कर्म-दोष मे युक्त (स १८८) । ४ कम्म न  
[कर्मन्] १ माधु के लिए आहार पकाना ।  
२ साधु के निमित्त पकाया हुआ भोजन, जो  
जैन साधुओं के लिए निषिद्ध है (परह २, ३,  
ठा २, ४) । ५ कम्मिय वि [कर्मिक] देखो  
पूर्वोक्त अर्थ (अनु) ।  
आहाण न [आधान] १ स्थापन । २ न्यान,  
आश्रय, 'सव्वगुणाहाण' (आव ४, उवर २६) ।  
आहाण } न [आख्यान, क] १ उक्ति,  
आहाणय } वचन । २ किवदन्ती, कहावत,  
लोकोक्ति (मुर २, ६६, उप ७२८ टी) ।  
आहातहिय वि [याथातथ्य] नत्य, वान्त-  
विक (सूत्र २, १, २७) । देखो आहत्तहीय ।  
आहार सक [आ + हारय] खाना, भोजन  
करना, भक्षण करना । आहारइ, आहारंति  
(भग) । वक आहारेमाण (कप्प) । मक  
आहारिउज्जसमाण (भग) । हेक आहा-  
रित्तए, आहारेत्तए (कप्प) । क आहारे-  
यच्च (ठा ३) ।  
आहार पु [आहार] १ गुराक, भोजन (स्वप्न  
६०, प्रासू १०४) । २ खाना, भक्षण (पव) ।  
३ न देखो आहारग (पचम १०२, ६८) ।

पञ्जन्ति स्त्री [पर्याप्ति] भुक्त आहार को  
खल शरीर रस के रूप में बदलने की शक्ति (भग  
६, ४) । २ पोसह पु [पोषध] व्रत विशेष,  
जिममे आहार का सर्वया या आशिक त्याग  
किया जाता है (आव ६) । ३ सण्णा स्त्री  
[सन्ना] आहार करने की इच्छा (ठा ४) ।  
आहार पु [आवार] १ आश्रय, अधिकरण  
(सुपा १२८, सया १०३) । २ आकार (भग  
२०, २) । ३ अवधारण, याद रखना (पुष्प  
३५६) ।  
आहारग न [आहारक] १ शरीर विशेष,  
जिमको चौदह-पूर्वी, केवलजानो के पास जाने  
के लिए बनाता है (ठा २, २) । २ वि भोजन  
करनेवाला (ठा २, २) । ३ आहारक शरीर-  
वाला (विमे ३७५) । ४ आहारक शरीर उत्पन्न  
करने का जिसे सामर्थ्य हो वह (कप्प) ।  
५ जुगल न [युगल] आहारक शरीर और  
उसके भ्रगोपाङ्ग (कम्म २, १७, २४) । ६ णाम  
न [नामन्] आहारक शरीर का हेतु भूत  
कर्म (कम्म १, ३३) । ७ दुग न [द्विक]  
देना जुगल (कम्म २, ३, ८, १७) ।  
आहारण वि [आवारण] १ धारण करने-  
वाला । २ आवार-भूत (मे ६, ५०) ।  
आहारण वि [आहारण] आकर्षक (मे ६,  
५०) ।  
आहारय देखो आहारग (ठा ६, भग परण  
२८, ठा ५, १, कर्म १, ३७) ।  
आहाराडणिया स्त्री [याथारात्तिकता] यया-  
ज्येष्ठ, ज्येष्ठानुक्रम (कम्म) ।  
आहारि वि [आहारिन्] आहार-कर्ता  
(अज्ज १११) ।  
आहारिम वि [आहार्य] १ खाने योग्य ।  
२ जल के साथ खाया जा सके ऐसा योग्य चूर्ण-  
विशेष (पिड ५०२) ।  
आहारिम वि [आहार्य] आहार के योग्य,  
खाने लायक (निचू ११) ।  
आहारिय वि [आहारित] १ जिसने आहार  
किया हो वह, 'तस्स कंडरीयन्म गणो त  
परणीयं पारणभोयण आहारियन्म समाणत्त'  
(णाय १, १६) । २ भक्षित, भुक्त (भग) ।  
आहावणा स्त्री [आभावना] अपरिगणना,  
गणना का अभाव (राज) ।

आहावणा स्त्री [आभावना] उदर्य (पिड  
३६१) ।  
आहाविअ वि [आधावित] दौटा हुआ  
(सिदि ७५२) ।  
आहाविर वि [आधावित्] दौडनेवाला  
(सण) ।  
आहास देखो आभाम = आ + भाप् । संकृ  
आहासिचि (अप) (मवि) ।  
आहाह म [आहाह] आश्चर्य-प्रोत्क अश्चर्य  
(हे २, २१७) ।  
आहि पुस्त्री [आधि] मन की पीडा (धम्म  
१२ टी) ।  
आहिआइ स्त्री [आभिजानि] कुलीनता,  
खानदानी (मे १, ११) ।  
आहिआई स्त्री [आभिजाती] कुलीनता (गा  
२८५) ।  
आहिड सक [आ + हिण्ड] १ गमन  
करना, जाना । २ परियम करना । ३ घूमना,  
परिभ्रमण करना । वक आहिडंत, आहि-  
डेमाण (उप २६४ टी, णाय १, १) । संकृ.  
आहिडिय (महा, न १६३) ।  
आहिडग } वि [आहिण्डक] चलनेवाला,  
आहिडय } परिभ्रमण करनेवाला (शोध  
११५, ११८, शीप) ।  
आहिक न [आधिक्य] अधिकता (विसे  
२०८७) ।  
आहिजाइ देखो आहिआइ (महा) ।  
आहिजाई देखो आहिआई (गा २४) ।  
आहितुडिअ पु [आहितुण्डिक] गच्छिक,  
नपहरिया, सपेरा (मुद्रा ११६) ।  
आहित्य वि [दि] १ चलित, गत । २ कुपित,  
क्रुद्ध (दे १, ७६, जीव ३ टी) । ३ आकुल,  
बबडाया हुआ (दे १, ७६, से १३, ८३,  
पाम्र); 'आहित्यं उपिच्छं च आत्तं रोस-  
नरियं च' (जीव ३ टी) ।  
आहित्य वि [दि] १ रुद्ध, रुका हुआ । २  
गलित, गला हुआ (पह) ।  
आहिपत्त न [आधिपत्य] मुखियापन, नेतृत्व  
(उप १०३१ टी) ।  
आहिय वि [आहित] १ स्थापित, निवेशित (ठा  
८) । २ सम्पूर्ण हितकर (सूत्र) । ३ विरचित,

निर्मित (पात्र) । °ग्नि पुं [°ग्नि] अग्नि-  
होत्रीय ब्राह्मण (पठम ३५, ५) ।

आहिय वि [आहित] १ व्याप्त, 'अचिरेणा-  
हिभ्यो एस जलोयरवाहिणा' (कुप्र ४३) । २  
जनित, उत्पादित । ३ प्रथित, प्रसिद्धि-प्राप्त  
(सूत्र १, २, २, २६) । ४ सर्वथा हितकारी  
(सूत्र १, २, २, २७) ।

आहिय वि [आख्यात] कहा हुआ, प्रति-  
पादित, उक्त (परण ३३, मुञ्ज १६) ।

आहियार पुं [आधिकार] अधिकार, सत्ता,  
हक (पठम ५५, ८) ।

आहियत्त देखो आहिपत्त (काल) ।

आहिसारिअ वि [अभिसारित] नायक-वृद्धि  
से गृहीत, पति-वृद्धि से स्वीकृत (से १३, १७) ।

आहीर पु [आहीर] १ देश-विशेष (कप्प) ।  
२ शूद्र जाति विशेष, अहीर (सूत्र १, १) ।

३ इस नाम का एक राजा (पठम ६८, ६५) ।  
स्त्री °री—अहीरिन् (सुपा ३६०) ।

आहु सक [आ + हवे] बुलाना । कृ आहु-  
णिज्ज (श्रौप) ।

आहु [आ + हु] दान करना, त्याग करना ।  
कृ आहुणिज्ज (खाया १, १) ।

आहु अ [आहु] श्रयषा, या (नाट) ।

आहु पुं [दे] धुक, उल्लू (दे १, ६१) ।

आहु देखो आह = ब्रूम् ।

आहुइ वि [आहोत्] दाता, त्यागी (खाया  
१, १) ।

आहुइ स्त्री [आहुति] १ हवन, होम (गठड) ।  
२ होम का पदार्थ, वलि (म १७) ।

आहुदुर } पु [दे] बालक, बच्चा (दे १,  
आहुदुरु } ६६) ।

आहुड न [दे] १ सीत्कार, सुरत समय का  
शब्द । २ परिणत, विक्रय, बेचना (दे १, ७५) ।

आहुड अक [दे] गिरना । आहुडइ (दे १,  
६६) ।

आहुडिअ वि [दे] निपतित, गिरा हुआ (दे  
१, ६६) ।

आहुण सक [आ + धु] केंपाना, हिलाना ।  
कवक आहुणिज्जमाण (खाया १, ६) ।

आहुणिय वि [आधुनिक] १ आजकल का,  
नवीन । २ पु ग्रह-विशेष (ठा २, ३) ।

आहुत्त न [दे अभिमुख] सम्मुख, सामने,  
'कुमरोवि पहाविभो तयाहुत्त' (महा. भवि) ।

आहूअ वि [आहूत] बुलाया हुआ (पात्र) ।  
आहूअ पु [आहूक] पिशाच-विशेष (इक) ।

आहूअ वि [आभूत] उत्पन्न, जात, 'आहूओ  
से गब्भो' (वमु) ।

आहेउ देखो आहा = आ + धा ।

आहेड } पुन [आखेट, °क] शिकार,  
आहेडया } मृगया (सुपा १६७, स ६७,  
आहेडय } दे) ।

आहेडिय वि [आखेटिक] मृगया-सम्बन्धी,  
'आहेडियमसणेण' (सम्मत २२६) ।

आहेण न [दे] विवाह के बाद वर के घर

वधु के प्रवेश होने पर जो जिमाने का उत्सव  
किया जाता है वह (आचा २, १, ४) ।

आहेय वि [आधेय] १ स्याप्य । २ आश्रित  
(विसे ६२४) ।

आहेर देखो आहीर (विसे १४५४) ।

आहेवच्च न [आधिपत्य] नेतृत्व, मुखियापन  
(सम ८६) ।

आहेवण न [आक्षेपण] १ आक्षेप । २ क्षोभ  
उत्पन्न करना (परह १, २) ।

आहोअ देखो आभोग (से १, ४६, ६, ३,  
गा ८८, गठड) ।

आहोअ देखो आभोय = आ + भोज्य् ।  
सकृ आहोइऊण (स ५५) ।

आहोइअ वि [आभोगित] ज्ञात, दृष्ट (स  
४८५) ।

आहोइअ वि [आभोगिक] उपयोग ही  
जिसका प्रयोजन हो वह, उपयोग-प्रवान  
(कप्प) ।

आहोइअ वि [आभोगिक] उपयोग ही  
जिसका प्रयोजन हो वह, उपयोग-प्रवान  
(कप्प) ।

आहोइअ वि [आभोगिक] उपयोग ही  
जिसका प्रयोजन हो वह, उपयोग-प्रवान  
(कप्प) ।

आहोइअ वि [आभोगिक] उपयोग ही  
जिसका प्रयोजन हो वह, उपयोग-प्रवान  
(कप्प) ।

आहोइअ वि [आभोगिक] उपयोग ही  
जिसका प्रयोजन हो वह, उपयोग-प्रवान  
(कप्प) ।

आहोइअ वि [आभोगिक] उपयोग ही  
जिसका प्रयोजन हो वह, उपयोग-प्रवान  
(कप्प) ।

इअ पाइअसद्महण्णवे आयाराइसद्संकलणो  
विइओ तरगो समत्तो ।



## इ

इ पु [इ] १ प्राकृत वर्णमाला का तृतीय स्वर-  
वर्ण (प्राभा) । २-३ वाक्यालङ्कार और पाद-  
पूर्ति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय (कप्प, हे  
२, ११७, पट्) ।

इ देखो इइ (उवा) ।

इ सक [इ] १ जाना, गमन करना । २  
जानना । एइ, एति (कुमा) । वकृ. एंत  
(कुमा) । सकृ इश्वा (आचा) । हेइ. इत्तए,  
एत्तए (कप्प: कस) ।

इअहरा देखो इयरहा (प्राकृ ३७) ।

इइ अ [इति] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ समाप्ति (आचा) । २ भवधि, हृद (विसे) ।  
३ मान, परिमाण (पव ८४) । ४ निश्चय (निच्च  
२, १५) । ५ हेतु, कारण (ठा ३) । ६ एवम्,  
इस तरह, इस प्रकार (उत्त २२) । देखो इति ।

इओ अ [ इतस् ] १ इससे, इस कारण (पि १७४) । २ इस तरफ (सुपा ३६४) । ३ इस (लोक) में (विसे २६८२) ।

इओअ अ [ इतश्च ] प्रसगान्तर-मूचक अव्यय (आ २८) ।

इखिणिया स्त्री [ दे. इक्षिनिका ] निन्दा, गर्ह (नृश १, २) ।

इंखिणी स्त्री [ दे. इक्षिनी ] ऊपर देखो (सूत्र १, २) ।

इंगार } देखो अंगार (पि १०२, जी ६,  
इंगाल } प्राप्र) । °कम्म न [ °कम्मन् ]  
कोयना आदि उत्पन्न करने का और वेचने का  
व्यापार (पडि) । °सगडिया स्त्री [ °शक-  
टिका ] शंकोठी, प्राग रखने का वर्तन (भग) ।

इंगारडाह पुंन [ अङ्गारदाह ] आवा, मिट्टी के  
पाय पकाने का म्यान (आचा २, १०, २) ।

इंगाल वि [ आङ्गार ] अङ्गार-संबन्धी (दस ५) ।

इंगालग देखो अंगारग (ठा २, ३) ।

इंगालय देखो अंगालग (मुञ्ज २०) ।

इंगाली स्त्री [ दे ] ईव का टुकड़ा, गडरी (दे १,  
७६, पाप्र) ।

इंगाली स्त्री [ आङ्गारी ] देखो अंगाल-कम्म  
(आ २२) ।

इगिअ न [ इङ्गित ] टगारा, सकेत, अभिप्राय  
के अनुस्य चेषा (पाप्र) । °ज्ज, °ण्ण, ण्णु वि  
[ °ङ्ग ] इगारे से ममभनेवाला (प्राप्र, हे २,  
८३, पि २७६) । °मरण न [ °मरण ] मरण-  
विशेष (पचा) ।

इगिअजाणुअ देखो अगिअज्ज (प्राक्र १८) ।

इगिगी स्त्री [ इङ्गिनी ] मरण-विशेष, अतशन-  
क्रिया-विशेष (सम ३३) ।

इंगुअ न [ इङ्गुअ ] इंगुदी वृज का फल (कुमा,  
पठम ४१, ६) ।

इंगुई } स्त्री [ इङ्गुदी ] वृज-विशेष, इसके  
इंगुदी } फल तैलमय होते हैं, इसका दूसरा  
नाम मण-विरोपण भी है, क्योंकि इसके तैल  
से मण बहुत शीघ्र अच्छे होते हैं (आचा; प्रभि  
७३) ।

इविअ वि [ दे ] घात, मूँघा हुआ (दे १, ८०) ।

°इणर देखो किणगर (सि ८, ६१) ।

इत देखो ए = आ + इ ।

इद्र पु [ इन्द्र ] १ देवताओं का राजा, देवराज  
(ठा २) । २ श्रेष्ठ, प्रवान, नायक; 'एरिद'  
(गठड), 'दिंदिद' (कप्प) । ३ परमेस्वर, ईश्वर  
(ठा ४) । ४ जीव, आत्मा, 'इदो जीवो सच्चो-  
वलद्धिभोगपरमेसरत्तएणो' (विसे २६६३) ।

५ ऐश्वर्य-शाली (आवम) । ६ विद्याधरो का  
प्रसिद्ध राजा (पठम ६, २, ७, ८) । ७ पृथ्वी-  
काय का एक अविष्टायक देव (ठा ५, १) ।

८ ज्येष्ठा नक्षत्र का अविष्टायक देव (ठा २,  
३) । ९ उन्नीसवें तीर्थंकर के एक न्वनाम-  
व्यात गणधर (सम १५२) । १० मसमी  
तिथि (कप्प) । ११ मेघ, वर्षा, 'वि जयइ  
सञ्चत्वा दुन्मिक्खं अह भवे इदो' (दसनि  
१०५) । १२ न देवविमान-विशेष (सम  
३७) ।

°इ पु [ °जिन् ] १ इस नाम का  
राक्षस वंश का एक राजा, एक लक्ष्य (पठम  
५, २६२) । २ रावण के एक पुत्र का नाम  
(से १२, ५८) । °ओव देखो °गोव (पि  
१६८) । °काडय पु [ °मायिक ] श्रीन्द्रिय  
जीव-विशेष (परण ?) । °कील पु [ °कील ]  
दरवाजा का एक अवयव (श्रौप) । °कुभ पु  
[ °कुम्भ ] १ बड़ा कलश (राय) । २ ल्यान्-  
विशेष (राया १, २) । °केउ पु [ °केतु ]  
इन्द्र-वृज, इन्द्र यष्टि (परह १, ४, २, ४) ।

°खील देखो °कील (श्रौप; पि २०६) ।

°गाइय देखो °काडय (सम २६) । °गाह पु  
[ °ग्रह ] इन्द्रवेश, किनी के शरीर में इन्द्र  
का अविष्टान, जो पागलपन का कारण होता  
है, 'इदगाहा इवा खदगाहा इवा' (भग ३,  
७) । °गोव, °गोवग, °गावय पुं [ °गोप ]  
वर्षा ऋतु में होनेवाला रक्त वर्ण का धुन  
जन्तु-विशेष, जिनको उजराती में 'गोकुल  
गाय' कहते हैं (उव ३२, सुर २, ८७, जी  
१७, पि १६८) । °गह पु [ °ग्रह ] गह-  
विशेष (जीव ३) । °गिग पु [ °गिगि ] १  
विद्यावा नक्षत्र का अविष्टायक देव (अणु) ।

२ महाग्रह-विशेष (ठा २, ३) । °गंगी पु  
[ °ग्रीव ] महाविष्टायक देव-विशेष (ठा २, ३) ।

°जसा स्त्री [ °यशम् ] काम्पिल्य नगर के  
ब्रह्मराज की एक पत्नी (उत्त १३) । °जाल  
न [ °जाल ] माया-कर्म, छल, कपट (स  
४५४) । °जालि, °जालिअ वि [ °जालिन्,  
°क ] मायावी, वाजीगर (ठा ४, सुपा २०३) ।

°जुडण पु [ °द्युतिज्ज ] स्वनाम-व्यात इक्ष्वाकु-  
वंश का एक राजा (पठम ५, ६) । °ज्मय  
पु [ °ध्वज ] वही वृजा (पि २६६) ।

°ज्मया स्त्री [ °ध्वजा ] इन्द्र द्वारा भरतराज को  
दिखाई हुई अपनी दिव्य अङ्गुलि के उपलक्ष में  
राजा भरत ने उस अङ्गुलि के रामान आकृति  
की की हुई स्थापना और उसके उपलक्ष में  
किया गया उत्सव (आचू २०) । °गील पुन  
[ °नील ] नीलम, नीलमणि, रत्न-विशेष  
(गठड, पि १६०) । °तरु पुं [ °तरु ] वृक्ष-  
विशेष, जिसके नीचे भगवान् सन्वनाथ को  
केवल-ज्ञान हुआ था (पठम २०, २८) । °त्त  
न [ °त्व ] १ न्वर्ग का आविपत्य, इन्द्र का  
असाधारण धर्म । २ राजत्व । ३ प्रावान्य  
(मुपा २५३) । °दत्त पु [ °दत्त ] इस नाम  
का एक प्रसिद्ध राजा (उप ६३६) । २ एक  
जैन मुनि (विपा २, ७) । °दिणग पुं [ °दिज्ज ]  
स्वनाम-व्यात एक जैन आचार्य (कप्प) ।

°धणु न [ °धनुप् ] १ शर-वृत्त, सूर्य की  
किरण मेघों पर पडने से आकाश में जो वनूप  
का आकार दीव पड़ता है वह । २ विद्यावर-  
वंश के एक राजा का नाम (पठम ८, १८६) ।

°नील देखो °गील (पठम ३, १३०) ।

°पाडियया स्त्री [ °प्रतिपत् ] कार्तिक  
(उजराती आश्विन) मास के कृष्णपक्ष की  
पहली तिथि (ठा ४) । °पुर न [ °पुर ] १  
इन्द्र का नगर, अमरावती (उप ५ १२६) । २  
नगर-विशेष, राजा इन्द्रदत्त की राजधानी  
(उप ६३६) । °पुरग न [ °पुरक ] जैनोय  
वेशाटिक गण के चौथे कुल का नाम (कप्प) ।

°पभ पु [ °प्रभ ] राक्षस वंश के एक राजा  
का नाम, जो लङ्का का राजा था (पठम ५,  
२६१) । °भूड पु [ °भूति ] भगवान् महावीर  
का प्रथम-गुरु शिष्य, गौतमस्वामी (सम  
१६, १५२) । °मह पु [ °मह ] १ इन्द्र की  
आराधना के लिए किया जाता एक उत्सव ।

२ आश्विन पूर्णिमा (ठा ४, २) । °माली स्त्री  
[ °माली ] राजा आदित्य की पत्नी (पठम ६,  
१) । °मुद्धामिमित्त पु [ °मूर्द्धाभिपित्त ]  
पक्ष की सातवीं तिथि, सप्तमी (चंद्र १०) ।

°मेह पु [ °मेघ ] राक्षस वंश में उत्पन्न एक  
राजा (पठम ५, २६१) । °य पु [ °क ] १  
देखो इन्द्र (ठा ६) । २ नरक-विशेष । ३

द्वीप-विशेष । ४ न. विमान विशेष (इक्ष्णु) ।  
 °याल देखो °जाल (महा) । °रह पु [°रथ] विद्याधर वंश के एक राजा का नाम (पद्य ५, ४४) । °राय पु [°राज] इन्द्र (तित्य) । °लट्टि स्त्री [°गट्टि] इन्द्र-वज्र (गाथा १, १) । °लेहा स्त्री [°लोखा] राजा विक्रमयत् की पत्नी (पद्य ५, ५१) । °वज्रा स्त्री [°वज्रा] इन्द्र-विशेष का नाम, जिसके एक पाद में ग्यारह शंख होते हैं (पिंग) । °वसु स्त्री [°वसु] ब्रह्मराज की एक पत्नी (राज) । °वाय पु [°वात] एक माण्डलिक राजा (भवि) । °वारण पु [°वारण] इन्द्र का हाथी, ऐरावत (कुमा) । °सम्म पु [°शर्मन्] स्वनाम-ख्यात एक ब्राह्मण (आवम) । °साम-णिय पुं [°सामानिक] इन्द्र के समान ऋद्धि-वाला देव (महा) । °सिरी स्त्री [°श्री] राजा ब्रह्मदत्त की एक पत्नी (राज) । °सुअ पु [°सुन] इन्द्र का लडका, जयन्त (दे ६, १६) । °सेगा स्त्री [°सेना] १ इन्द्र का सैन्य । २ एक महानदी (ठा ५, ३) । °हणु देखो °घणु (हे १, १८७) । °वह न [°युध] इन्द्रयन्तु (गाथा १, १) । °जहूपम पु [°युधप्रभ] वानरद्वीप का एक राजा (पद्य ६, ६६) । °मअ पु [°मय] राजा इन्द्रायुधप्रभ का पुत्र, वानरद्वीप का एक राजा (पद्य ६, ६७) । इद पुन [इन्द्र] एक देवविमान (देवेन्द्र १४१) । इद वि [इन्द्र] १ इन्द्र-संबन्धी (गाथा १, १) । २ न सस्कृत का एक प्राचीन व्याकरण (आवम) । इंदगाइ पु [दे] साय में संलग्न रहनेवाले कीट-विशेष (दे १, ८१) । इदगिगि पु [दे] बर्फ, हिम (दे १, ८०) । इंदगिगिधूम न [दे] बर्फ, हिम (दे १, ८०) । इंदडडलअ पु [दे] इन्द्र का उद्यापन (दे १, ८२) । इदमह वि [दे] १ कुमारी में उत्पन्न । २ न, कुमारीता, यौवन (दे १, ८१) । इदमहकामुअ पु [दे. इन्द्रमहकामुक] कुत्ता, धान (दे १, ८२, पात्र) । ईदा स्त्री [इन्द्रा] १ एक महानदी (ठा ५, ३) । २ वरुण की एक अग्र-महिषी (गाथा २) । इदा स्त्री [इन्द्रा] पूर्व-दिशा (ठा १०) ।

इदाणी स्त्री [इन्द्राणी] १ इन्द्र की पत्नी (सुर १, १७०) । २ एक राज-पत्नी (पद्य ६, २१६) । इदासणि पु [इन्द्राशनि] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६) । इदिदिर पु [इन्द्रिन्दिर] भ्रमर, भमरा, भौरा (पात्र, दे १, ७६) । इदिय पुन [इन्द्रिय] १ आत्मा का चिह्न, ज्ञान के साधन-भूत इन्द्रिय—श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जिह्वा, त्वक् शौर मन, 'त तारिस् नो पयलेंति इदिया' (दसजू १, १९, ठा ६) । २ अग्र, शरीर के अवयव, 'नो निगये इत्येणं इदियाइ मणोहराह मणोरमाइ गालोइत्ता निज्जाइत्ता भवइ' (उत्त ६६) । °अवा य पु [°पाय] इन्द्रियो द्वारा होनेवाला वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष (परण १५) । °ओगाइणा स्त्री [°वप्रहणा] इन्द्रियो द्वारा उत्पन्न होनेवाला ज्ञान-विशेष (परण १५) । °जय पुं [°जय] १ इन्द्रियो का निग्रह, इन्द्रियो को बश में रखना, 'अजि-इदिहि चरण, कट्ट व घुणेहि कीरइ असार । तो धम्मत्थोहि दट्ट, जइअव्व इदियजयम्मि' (इदि ४) । २ तरो-विशेष (पद्य २७०) । °ट्टाण न [°स्थान] इन्द्रियो का उपादान कारण, जैसे श्रोत्रेन्द्रिय का आकाश, चक्षु का तेज वगैरह (सूत्र १, १) । °णिव्वत्तणा स्त्री [°निर्वर्त्तना] इन्द्रियो के आकार की निष्पत्ति (परण १५) । °णाण न [°ज्ञान] इन्द्रिय-द्वारा उत्पन्न ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान (वव १०) । °त्य पुं [°र्थ] इन्द्रिय से जानने योग्य वस्तु, स्थ-रस-गन्ध वगैरह (ठा ६) । °पज्जन्ति स्त्री [°पर्याप्ति] शक्ति-विशेष, जिसके द्वारा जीव वातुश्रो के रूप में बदले हुये आहार को इन्द्रियो के रूप में परिणत करता है (परण १) । °विजय पु [°विजय] देखो °जय (पचा १८) । °विसय पु [°विषय] देखो °स्थ (उत्त ५) । इदिय न [इन्द्रिय] लिंग, पुरुष-चिह्न (धर्मस ६८१) । इंदियाल देखो इद-जाल (मुपा ११७, महा) । इंदियाल } देवो इद-जालि, 'तुह कोउयत्य-इंदियाल } मित्थ विहिय मे खयरइदियालेण' (मुपा २४२), 'जह एन इदियाली, दसइ खणनस्सराइ ह्वाइ' (मुपा २४३) ।

इदियालीअ देखो इद-जालिअ, 'न भवामि अहं खयरो नरपुगव ! इदियालीअो' (मुपा २४३) । इदिर पु [इन्द्रिर] भ्रमर, भमरा, भौरा- 'भंकारमुहरिदिराइ' (विक्र २६) । इदिरा स्त्री [इन्द्रिरा] लक्ष्मी (सम्मत् २२६) । इदीवर न [इन्दीवर] कमल, पद्म (पद्य १०, ३६) । इंदु पुं [इन्दु] चन्द्र, चन्द्रमा (पात्र) । इदुत्तरवडिसग न [इन्द्रोत्तरावतसक] देव-विमान-विशेष (सम ३७) । इदुर पुस्त्री [उन्दुर] चूहा, मूपक (नाट) । इदोकन न [इन्दुकान्त] विमान-विशेष (सम ३७) । इदोव देखो इद-गोव (पात्र, दे १, ७६) । इदोवत्त पु [दे] इन्द्रगोप, कीट-विशेष (दे १, ८१) । इद्र देखो इद = इन्द्र (पि २६८) । इध न [चिह्न] निशानी, चिह्न (हे १, १७७-२, ५०, कुमा) । इधण न [इन्धण] १ इंधन, जलावन, लकड़ी वगैरह दाह-वस्तु (कुमा) । २ अन्न-विशेष (पद्य ७१, ६४) । ३ उद्दीपन, उत्तेजन (उत्त १४) । ४ पलाल, पुआल, चूरा वगैरह, जिसमें फल पकाये जाते हैं (निचू १५) । °साला स्त्री [°शाला] वह घर, जिसमें जलावन रक्ते जाते हैं (निचू १६) । इधिय वि [इन्धित] उद्दीपित, प्रज्वलित (वृह ४) । इक न [दे] प्रवेश, पैठ, 'इकमप्पए पवेसण' (विसे ३४८३) । इक्क देखो एक्क (कुमा, मुपा ३७७, द ४०, पात्र, प्रासू १०, कस, सुर १०, २१२, आ १०, द २१, रयण २, आ ६, पद्य ११, ३२) । इक्कड पु [इक्कड] चूरा-विशेष (परह २, ३-परण १) । इक्कड वि [इक्कड] इक्कड चूरा का बना हुआ (आचा २, २, ३, १४) । इक्ष्णु वि [दे] चोर, चुरानेवाला (दे १, ८०), 'वाहुलयामूलेसु रइयायो जणमयेकसाओ उ । वाहुसरियाउ तीसे' (स ७६) ।

इकार देखो एकारह (कम्म ६, ६६) ।  
 इक्षिक वि [एकैक] प्रत्येक (जी ३३, प्रासू ११८, सुर ८, ४२) ।  
 इक्षिल छोन [एकचत्वारिंशन्] एकचालीस, ४१ (कम्म ६, ५६) ।  
 इक्कुस न [दे] नीलोल्ल, कमल (दे १, ७६) ।  
 इक्ख सक [इंख] देखना । इक्खइ (उव) । इक्ख (सूय १, २, १, २१) ।  
 इक्खअ वि [इंख] देखनेवाला (गा ५५७) ।  
 इक्खण न [इंखण] भवलोकन, प्रेदार (पठम १०१, ७) ।  
 इक्खाउ देखो इक्खागु (विक्र ६४) ।  
 इक्खाग वि [इंखाक] इक्खाकु नामक प्रसिद्ध क्षत्रियवंश में उत्पन्न (तिर्य) ।  
 इक्खागु पुं [इंखाकु] १ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय इक्खागु राजवंश, भगवान् ऋषभदेव का वंश । २ उस वंश में उत्पन्न (भग ९, ३३, कप्प, श्रौप, अजि १३) । ३ कोशल देश (साया १, ८) । ४ भूमि स्त्री [भूमि] भयोव्या नगरी (भाव २) ।  
 इक्खु पुं [इंखु] १ ईश्वर, ऊव (हे २, १७, पि ११७) । २ बान्य-विशेष, 'वरद्विका' नाम का धान्य (था १८) । ३ गडिया स्त्री [गण्डिका] गढेरी, ईश्वर का टुकड़ा (भावा) । ४ वर न [गृह] उद्यान-विशेष (विने) । ५ चोयन न [टे] ईश्वर का कुम्हा (भावा) । ६ डालग न [दे] १ ईश्वर की शाखा का एक भाग (भावा) । २ ईश्वर का छेद (निचू १) । ३ पेसिया स्त्री [पेसिका] गण्डेरी (निचू १६) । ४ भित्ति स्त्री [टे] ईश्वर का टुकड़ा (निचू १६) । ५ मेरन न [मेरक] गण्डेरी, कटे हुए ऊव के गुल्ले (भावा) । ६ लोट्ट स्त्री [यष्टि] ईश्वर की लाठी, इधु-दण्ड (प्राचू) । ७ वाढ पु [वाट] ईश्वर का श्वेत, 'मुचिरं पि अच्यमारो नलयनो इच्छुवाडमज्जम्मि' (भाव ३) । ८ साल्हा न [दे] १ ईश्वर की लम्बी शाखा (भावा) । २ ईश्वर की बाहर की छाल (निचू १६) । देखो उच्छु ।  
 इग देखो एक (कम्म १, ८, ३३, मुपा ४०६, था १४, नव ८, पि ४४५, था ४४, सम ७५) ।

इग्याल छोन [एकचत्वारिंशन्] एकचालीस, ४१ (कम्म ६, ५६) ।  
 इगवीसडम वि [एकविंश] एकवीसवां (पव ४६) ।  
 इगुचाल वि [एकचत्वारिंशन्] संख्या-विशेष, ४१—चालीस और एक (भग, पि ४४५) ।  
 इगुणवीस वि [एकोनविंश] उन्नीसवां (पव ४६) ।  
 इगुणीम स्त्री [एकोनविंशति] उन्नीस (पव इगुवीम) १८, कम्म ६, ५६) ।  
 इगुमट्टि स्त्री [एकोनपट्टि] उनमठ (कम्म ६, ६१) ।  
 इग्ग वि [दे] भीत, डग हुआ (दे १, ७६) ।  
 इग्ग देवो एक (नाट) ।  
 इग्घिअ वि [दे] भलित, तिरन्हन (दे १, ८०) ।  
 इज्जा देखो ड सक ।  
 इज्जाइ पुन [इत्यादि] बर्गरह, प्रवृत्ति (जी ३) ।  
 इज्जेअ अ [इत्येअम्] इस प्रकार, इस माफिक (सूय १, ३) ।  
 इच्छ सक [इप्] इच्छा करना, चाहना । इच्छइ (उव, महा) । वरु इच्छत, इच्छ-माण (उत्त १, पचा ५) ।  
 इच्छ सक [आप् + म् = ईप्स्] प्राप्त करने को चाहना । इच्छइयव्व (वव १) ।  
 इच्छकार देखो इच्छा-कार (पडि) ।  
 इच्छकार पुं [इच्छाकार] 'इच्छा' शब्द (पचा १२, ४) ।  
 इच्छा स्त्री [इच्छा] पद की ग्यारहवीं रात्रि, 'जयति-अपरजिया य ग( ? इच्छा य' (मुज १०, १४) ।  
 इच्छा स्त्री [इच्छा] अभिलाषा, चाह, वाञ्छा (उवा, प्रासू ४८) । १ कार पुं [कार] स्वकीय-इच्छा, अभिलाषा (पडि) । २ छंठ वि [च्छन्ठ] इच्छा के अनुकूल (भाव ३) । ३ गुलोम वि [गुलोम] इच्छा के अनुकूल (पण ११) । ४ गुलोमिय वि [गुलोमिक] इच्छा के अनुकूल (भावा) । ५ पणिय वि [पणीत] इच्छानुसार किया हुआ (भावा) । ६ परिमाण न [परिमाण] परिग्रह वस्तुओं के विषय की इच्छा का परिमाण करना, श्रावक का पाचवां व्रत (ठा ५) । ७ मुच्छा स्त्री [मुच्छा]

प्रत्यासक्ति, प्रवृत्त इच्छा (परह १, ३) । १ लोभ पुं [लोभ] प्रवृत्त लोभ (ठा ६) । २ लोभिय वि [लोभिक] महानोभी (ठा ६) । ३ लोल पुं [लोल] १ महान् लोभ । २ वि. महानोभी (वृह ६) ।  
 उच्छा स्त्री [उत्सा] देने की इच्छा (श्राव) ।  
 उच्छिय [इप्] इत्, अभिनयित, वाञ्छित (सुर ४, १५३) ।  
 उच्छिय वि [उत्थित] प्राप्त करने की चाह हुआ, अभिनयित (भग मुपा ६२५) ।  
 उच्छिय वि [उच्छिन] जिसकी इच्छा की गई हो वह (भग) ।  
 उच्छिर वि [उत्थित] इच्छा करनेवाला (कुमा) ।  
 उच्छु देखो इक्खु (कुमा, प्रासू ३३) ।  
 उच्छु वि [उच्छु] अभिलाषा (गा ७८०) ।  
 उज्ज सक [आ + इ] आना, आगमन करना । वरु उज्जत,  
 'विणयम्मि जो उवाएण, चोइया कुप्पई नरो । दिव्व सो चिरिमिज्जंति, दंहेण पडिमेहए ।' (दस ६, २, ८) ।  
 उज्ज पुं [उज्जा] वज्र, वाण, 'मिक्खट्ठा वन-इज्जमि' (उत्त १२, ३) ।  
 उज्जा स्त्री [इज्जा] १ वाण, पूजा । २ ब्राह्मणों का सम्बोधन (अणु ठा १०) ।  
 उज्जा स्त्री [दे] माता, जननी (अणु) ।  
 उज्जिसिय वि [उज्जियिक] पूजा का अभिलाषा (भग ९, ३३) ।  
 उज्जमा अक [इज्ज] चमकना (हे २, २८) । वरु. इज्जमाण (साय) ।  
 इट्टा पुं [दे] सेवई, गुं नेव (पिडनि ० गा० ४६१, ४६६) ।  
 इट्टा स्त्री [इष्टका] नीचे देखो (परह २, २, पिड) ।  
 इट्टा स्त्री [दे] खाद्य-विशेष, सेव (पिड ४६१, ४६६, ४७२) ।  
 इट्टाय देखो इट्टा-वाय (सम्मत्त १३७) ।  
 इट्टा स्त्री [इष्टका] ईंट (गडड, हे २, ३४) । १ पाय, वाच पुं [पाक] ईंटों का पकना । २ जहाँ पर ईंटें पकाई जाती हैं वह स्थान (ठा ८) ।

इट्टाल न [इट्टाल] इंट का टुकड़ा (दस ५, १, ६५) ।  
 इट्टु वि [इट्टु] १ अभिलिपित, अभिप्रेत, वाञ्छित (विपा १, १, सुपा ३७०) । २ पूजित, सल्लत (श्रीप) । ३ आगमोक्त, सिद्धान्त से अतिरुद्ध (उप ८८७) ।  
 इट्टु न [इट्टु] १ स्वाभ्युपगत, स्व-सिद्धान्त (धर्मस ५१९) । २ न तपो-विशेष, निर्विकृति-तप (सम्बोध ५८) । ३ यागक्रिया (स ७१३) ।  
 इट्टि स्त्री [इट्टि] १ इच्छा, अभिलाषा, चाह (मुपा २४६) । २ याग-विशेष (अभि २७७) ।  
 इट्टि स्त्री [इट्टि] स्त्रीचाव, स्त्रीचना (गा १८) ।  
 इट्टा स्त्री [इट्टा] शरीर के बाएँ भाग में स्थित नाडी (कुमा) ।  
 इट्टुर न [दे] गाड़ी (श्रीष ४७६) ।  
 इट्टुरग } न [दे] रसोई बनने का बड़ा पात्र  
 इट्टुरय } (राय १४०) ।  
 इट्टुरिया स्त्री [दे] मिष्टान्न-विशेष, एक प्रकार की मिठाई (मुपा ४८५) ।  
 इट्टु वि [इट्टु] ऋद्धि-सम्पन्न (भग) ।  
 इट्टि स्त्री [इट्टि] १ वैभव, ऐश्वर्य, सम्पत्ति (मुर ३, १७) । २ लक्ष्मि, शक्ति, सामर्थ्य (उत्त ३) । ३ पदवी (ठा ३, ४) । गौरव न [गौरव] सम्पत्ति या पदवी आदि प्राप्त होने पर अभिमान और प्राप्त न होनेपर उमकी लालना (मम २, ठा ३, ४) । पत्त वि [प्राप्त] ऋद्धिशाली (परण ११, सुपा ३६०) । म, मंत वि [मन्] ऋद्धिवाला (निचू १; ठा ६) ।  
 इट्टिर्हासय वि [दे] याचक-विशेष, मांगन की एक जाति (भग ६, ३३ टी) ।  
 इण्ण } अ [एतत्] यह (दे १, ७६) ।  
 इण्णमो }  
 इण्ण देखो किण्ण (से ४, ३५) ।  
 इण्ण देखो किण्ण (से ८, ७१) ।  
 इण्ह न [चिह्न] चिह्न, निशान (से १, १२, पङ्) ।  
 इण्ह स्त्री [चिह्णा] लुण्णा, प्यास, स्पृहा (गा ६३) ।

इण्हि अ [इदानीम्] इस समय, इस वक्त (दे १, ७६, पात्र) ।  
 इतरेतरासय पु [इतरेतराश्रय] तर्कशाल-प्रसिद्ध एक दोष, परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा (धर्मस ११५८) ।  
 इति देखो इह (पि १८) । हास पुं [हास] पूर्ववृत्तान्त, अतीतकाल की घटनाओं का विवरण, पुरावृत्त (कप्) । २ पुराणशाल (भग) । इत्तए देखो इ सक ।  
 इत्तर वि [इत्तर] १ अल्प, थोड़ा (अणु) । २ अल्प-कालिक, थोड़े समय के लिए जो किया जाता हो वह (ठा ६) । ३ थोड़े समय तक रहनेवाला (आ १६) । परिगहा स्त्री [परिग्रहा] थोड़े समय के लिए रखी हुई वेश्या, रखैल, खात आदि (आव ६) । परिगहिया स्त्री [परिगृहीता] देखो परिगहा (आव ६) ।  
 इत्तरिय वि [इत्तरिक] ऊपर देखो (निचू २, आचा, उवा, पचा १०) ।  
 इत्तरिय देखो इयर (सूत्र २, २) ।  
 इत्तरी स्त्री [इत्तरी] थोड़े काल के लिए रखी हुई वेश्या आदि (पचा १) ।  
 इत्तहे (अप) अ [अत्र] यहा पर (कुमा) ।  
 इत्ताहे अ [इदानीम्] इस समय, इस वक्त, अणुना (पात्र) ।  
 इत्ति देखो इड (कुमा) ।  
 इत्तिय वि [इयन्, एतावन्] इतना (हे २, १५६, कुमा, प्रासू १३८ पङ्) ।  
 इत्तरिय वि [इत्तरिक] अल्पकालिक, जो थोड़े समय के लिए किया जाता हो (स ४६, विसे १२६५) ।  
 इत्तिल देखो इत्तिय (हे २, १५६) ।  
 इत्तो देखो इओ (आ १७) ।  
 इत्तोअ देखो इओअ (आ १४) ।  
 इत्तोप्पं [दे] यहाँ से लेकर, इत प्रभृति (पात्र) ।  
 इत्थ अ [अत्र] यहाँ, इनमें (कप्, कुमा; प्रासू १४१) ।  
 इत्थं अ [इत्थम्] इन तरह, इस प्रकार (परण २) । थ वि [स्थ] नियत आकार-वाला, नियमित (जीव १) ।

इत्थं वि [इत्थस्थ] इन तरह रहा हुआ (दस ६, ४, ७) ।  
 इत्थत्थ पु [इत्थर्थ] वह अर्थ (भग) ।  
 इत्थत्थ पु [इत्थर्थ] स्त्री-विषय (पि १६२) ।  
 इत्थयं देखो इत्थ (आ १२) ।  
 इत्थि स्त्री [स्त्री] महिला, नारी, 'इत्थीणि वा पुत्थिणाणि वा' (आचा २, ११, ३) ।  
 इत्थि स्त्री [स्त्री] जनाना, औरत, महिला इत्थी (सूत्र २, २, हे २, १३०) । कला स्त्री [कला] स्त्री के गुण, स्त्री को सीखने योग्य कला (ज २) । कहा स्त्री [कथा] स्त्री-विषयक वार्तालाप (ठा ४) । णपुसग पुन [नपुसक] एक प्रकार का नपुसक (निचू १) । णाम न [नामन्] कर्म-विशेष, जिसके उदय से स्त्रीत्व की प्राप्ति होती है (राया १, ८) । परिसह पु [परिषह] ब्रह्मचर्य (भग ८, ८) । विपजह वि [विप्रजह] १ स्त्री का परित्याग करनेवाला । २ पु. मुनि, साधु (उत्त ८) । वेद, वेय पु [वेद] १ स्त्री को पुत्र्य सग की इच्छा । २ कर्म-विशेष, जिसके उदय में स्त्री को पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा होती है (भग, परण २३) ।  
 इत्थेण वि [स्त्रैण] स्त्रियों का समूह, स्त्री-जन, 'लज्जसि किं न महतो दोणाओ मारिसित्थेणा' (उप ७२८ टी) ।  
 इट्ठाणि देखो इयाणि (आचा) ।  
 इट्ठाणि (शौ) देखो इयाणि (प्राक् ८७) ।  
 इट्ठाणी } देखो इट्ठाणि (सक्कि १६) ।  
 इट्ठाणी }  
 इट्ठिवित्त (शौ) न [इत्तिवृत्त] इतिहास (मोह १२८) ।  
 इट्टुर न [दे] धान्य रखने का एक तरह का पात्र (अणु १५१) ।  
 इट्टु पुं [दे] भौंरा, मधुकर (दे १, ७६) ।  
 इट्टुगिधूम न [दे] तुहिन, हिम (पङ्) ।  
 इट्टि देखो इट्टि (पङ्) ।  
 इट्ठ (शौ) देखो इह (हे ४, २६८) ।  
 इट्ठ पु [इट्ठ] धनी, आठ्य (पात्र) ।  
 इट्ठ पु [दे] वणिक्, व्यापारी (१, ७६) ।  
 इट्ठ पु [इट्ठ] हाथी, हस्ती (ज २, कुमा) ।  
 इट्ठपाल पुं [इट्ठपाल] महावत (सम्मत १५७) ।  
 इट्ठ स [इट्ठम्] यह (हे ३, ७२) ।



इमेरिस वि [एताइरा] ऐमा, इसके जैना (सण) ।

इय देखो डम (महा) ।

इय देखो इड (पह, हे १, ६१, औप) ।

इय न [डे] प्रवेग, पेठ (आवम) ।

इय वि [इन] १ गत, गया हुआ (सूत्र १, ६) । २ प्राक्त, 'उद्यमिओ जन्नीओ जयम्मि चहुव्व जिणचदो' (मार्घ ७१, विसे) । ३ ज्ञान, जाना हुआ (आचा) ।

इयण्हि अ [इडानीम्] हाल में, इस समय, अधुना (ठा, ३) ।

इयर वि [इतर] १ अन्य, दूसरा (जो ४६, प्राप् १००) । २ हीन, जघन्य (आचा १, ६, २) ।

इयरहा अ [इतरथा] अन्यथा, नहीं तो, अन्य प्रकार में (कम्म १, ६०) ।

इयरेयर वि [इतरेतर] अन्योन्य, परस्पर (गल) ।

इयाणि } अ [इडानीम्] हाल में, इस  
इयाणि } समय (मग, पि १८४) ।

इर देखो जिल (हे २, १८६, नाट) ।

इरमदिर पुं [डे] वरम, ऊँट (दे १, ८१) ।

इराय पुं [डे] हाथी (दे १, ८०) ।

इरायती (औ) ली [इरायती] नदी-विशेष (नाट) ।

इरि देखो गिरि, 'विम्भरिपवरनिहरे' (पटम १०, २७) ।

इरिण न [ऋण] करजा, ऋण (चार ६६) ।

इरिण न [डे] कनक, मुक्ता (दे १, ७६, गडड) ।

इरिय सक [ईर] जाना, गति करना । इरियामि (उत्त १८, २६, मुक् १८, २६) ।

इरिया ली [डे] कुटी, कुटिया (दे १, ८०) ।

इरिया ली [ईर्या] गमन, गति, चलना (आचा) । व्ह पु [पय] १ मार्ग में जाना (धोत्र ५४) । २ जाने का मार्ग, रास्ता (मग ११, १०) । ३ केवल शरीर में होनेवाली क्रिया (सूत्र २, २) । व्हिय न [पयिक] केवल शरीर की क्रिया से होनेवाला मनुष्य, कर्म विशेष (सूत्र २, २, मग ८, ८) । व्हिया ली [पयिकी] कृपाय-गति केवल कायिक क्रिया, क्रिया-विशेष

(पडि; ठा २) । °समिड स्त्री [°समिति] विवेक में चलना, दूसरे जीव को किसी प्रकार की हानि न हो ऐसा उपयोग पूर्वक चलना (ठा ८) । °समिय वि [°समित] विवेक-पूर्वक चलनेवाला (विपा २, १) ।

इल पु [इल] १ वाराणसी का वान्तव्य स्वनाम-ख्यात एक गृहपति—गृहन्व (राया २) । २ न. इलादेवी के सिंहासन का नाम (राया २) । °सिरी स्त्री [°श्री] इल नामक गृहन्व की स्त्री (राया २) ।

°इलतअ देखो किलन (मे ३, ४७) ।

इला स्त्री [इला] १ शृंगी, भूमि (मे २, ११) । २ घररोद्ध की एक अन्न-महिषी (राया २) । ३ इल नामक गृहन्व की पुत्री (राया २) । ४ चक्र पर्वत पर रहनेवाली एक दिक्कुरारी (ठा ८) । ५ राजा जनक की माता (पटम २१, ३३) । ६ इलावर्धन नगर में स्थित एक देवता (आवम) । कूड न [कूट] इलादेवी के निवास-भूत एक शिवर (ठा ४) । °पुत्त पुं [°पुत्र] इलादेवी के प्रसाद में उत्पन्न एक धेछि-मुत्र, जिमने नदिनी पर मोहित होकर नट का पेशा सीखा और अन्त में नाच करते-करते ही शुद्ध भावना से केवलज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पाई (आचू) । वड पु [पति] एलापन्व गोत्र का आदि पुरुष (एदि) । वडसय न [पतसक] इलादेवी का प्रसाद (राया २) ।

इलाइपुत्त देखो इला-पुत्त, 'धनो इनाइपुत्तो चिलाइपुत्तो अ वाहमुणो' (पडि) ।

इलिया स्त्री [इलिका] क्षुद्र जीव-विशेष, चीनी और चावल में उत्पन्न होनेवाला कीट-विशेष (जी १७) ।

इली स्त्री [इली] शस्त्र विशेष, एक जाति की तलवार की तरह का हथियार (पएह १, ३) ।

इल्ल पु [दे] १ प्रतीहार, चपरानी । २ सन्निय, दाँती । ३ वि. दरिद्र, गरीब । ४ फोमल, मूड । ५ काला, कृष्ण वर्णवाला (दे १, ८२) ।

इल्लपुल्लि पु [दे] व्याघ्र, शेर (त्रड) ।

इल्लि पु [दे] १ शार्ङ्ग, व्याघ्र । २ सिंह । ३ छाता (दे १, ८३) ।

इल्लिय वि [दे] आसिक्त, उपेतलणकुल्लविअहल्ल-

अकुल्लानवेल्लिअमल्लिआअक्कतल्लएण' (विक्र २३) ।

इल्लिया स्त्री [इल्लिका] क्षुद्र जीव-विशेष, अन्न में उत्पन्न होनेवाला कीट-विशेष (जी १६) ।

इल्लीर न [दे] १ आसन-विशेष । २ छाता । ३ दरवाजा, गृह-द्वार (दे १, ८३) ।

इव अ [इव] इन अर्थों का द्योतक अव्यय— १ उपमा । २ सादृश्य, तुलना । ३ उत्प्रेक्षा (हे २, १८२, सण) ।

इसअ वि [दे] विल्लीण (पह) ।

इसणा देखो एसणा (रंभा) ।

इसागी स्त्री [ऐशानी] ईशान कोण, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा (नाट) ।

इसि पु [ऋषि] १ मुनि, साधु, ज्ञानी, महात्मा (उत्त १२, अवि १४) । २ अपिवादि-निकाय का दक्षिण दिशा का इन्द्र, इन्द्र-विशेष (ठा २, ३) । °गुत्त पुं [°गुम्] १ स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि (कण्) । २ न जैन मुनियों का एक कुल (कण्) । °गुत्तिय न [°गुमीय] जैन मुनियों का एक कुल (कण्) । °दास पुं [°दाम] १ इस नाम का एक सेठ, जिसने जैन दीक्षा ली थी । २ 'अनुत्तरोववाइदता' सूत्र का एक अव्ययन (अनु २) । °दत्त, °दिण्ण पुं [°दत्त] एक जैन मुनि (कण्) । °पालिय पुं [°पालिन] ऐरवत क्षेत्र के पाँचवें तीर्थंकर का नाम (सम १५३) । °पालिया स्त्री [°पालिना] जैन मुनियों की एक शाखा (कण्) । °भद्रपुत्त पुं [°भद्रपुत्र] एक जैन श्रावक (मग ११, १०) । °भासिय न [°भापिन] १ अगग्रन्थों के अतिरिक्त जैन श्रावकों के बनाए हुए उत्तराव्ययन आदि शान्ध (आवम) । २ 'अरतव्याकरण' सूत्र का तृतीय अव्ययन (ठा १०) । °वाइ, °वाडय, °वादिय पु [वादिन्] व्यन्तरो की एक जाति (श्रीप परह १, ४) । °वाल पु [°पाल] १ अपिवादि-व्यन्तरो का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३) । २ पाचवें वामुदेव का पूर्वभवीय नाम (सम १५३) । °वालिय पुं [°पालिन] अपिवादि-व्यन्तरा के एक इन्द्र का नाम (देव) ।

इसिण पु [इसिन] अनायं देश विशेष (राया १, १) ।

इसिणय वि [इसिनक] इसिन-नामक अनायं  
देश में उत्पन्न (साया १, १, इक) ।  
इसिया स्त्री [इयिका] सलाई, शलाका (सुप्र  
२, १) ।  
इसु पुं [इयु] वाण (पाप्र) ।  
इस्स वि [एणत्] १ भविष्य काल, 'जुत्त  
संपयमिस्स' (विसे) । २ होनेवाला, भावी;  
'समरइ मूय मिस्स' (विसे ५०८) ।  
इत्सर देखो ईसर (प्राप्र, पि ८७, ठा २, ३) ।  
इत्सरिय देखो ईसरिय (पठम ५, २७०, सम  
१३, प्रातू ७५) ।  
इत्सा स्त्री [ईण्या] द्रोह, असूया (उत्त ३४,  
२३) ।

इत्सास पुं [इत्वास] १ घनुष, कामुक, शरा-  
सन । २ बाण-क्षेपक, तीरदाज (प्राह) ।  
इह पु [इभ] हायी, हस्ती (प्राह) ।  
इह अ [इदानीम्] इस समय, अधुना (प्राह  
८०) ।  
इह अ [इह] यहाँ, इस जगह (आत्ता, स्वप्न  
२२) । पारलोइय वि [ऐहिकपारलौकिक]  
इस और परलोक में सम्बन्ध रखनेवाला (स  
१५६) । भविय वि [ऐहभविक] इस  
जन्म संबन्धी (भग) । लोअ, लोअ पु  
[लोक] वर्तमान जन्म, मनुष्य लोक (ठा ३,  
प्रातू ७५, १५३) । लोअ, लोअ वि [ऐह-  
लौकिक] इस जन्म-संबन्धी, वर्तमान जन्म-

संबन्धी (कप्प; सुपा ४०८, परह १, ३, म  
४८१), 'इहलौयपारलोइयमुहाई सन्वाइ तेण  
दिन्नाइ' (स १५५) ।  
इहअ } ऊपर देखो (पह, पठम २१; ७) ।  
इहइ }  
इहइ अ [इदानीम्] हाल, सप्रति, इस समय  
(पाप्र) ।  
इह } देवो इह = इह (श्रीप, आ १४) ।  
इहय }  
इहरहा } देखो इयर हा (उप ८६०, भत्त ३६,  
इहरा } हे २, २१२) ।  
इहरा देखो इहइ = इदानीम् (गठड) ।  
इहामिय देखो ईहामिय (पि ९४) ।  
इहि अ [इह] यहाँ (रभा) ।

॥ इअ सिरियाइअसदमहण्णवो इअराइसद् संकण्णो  
एणम तइअो तग्गो ममत्तो ॥

इ

ई पु [ई] प्राकृत वर्णमाला का चतुर्थ वर्ण,  
स्वर विशेष (प्रामा) ।  
ईअ स [एणत्, इवम्] यह (पि ४२६,  
४२६) ।  
ईअ अ [इति] इस तरह, 'इय मणोविसइण'  
(विसे ५१४) ।  
ईड पुं स्त्री [ईडि] धान्य वगैरह को नुकसान  
पहुँचानेवाला चूहा आदि प्राणि-गण (श्रीप) ।  
ईडम वि [ईडश] ऐसा, इस तरह का, उसके  
समान (महा; स १५) ।  
ईजिह अक [ध्रा] तुम होना । ईजिहइ (प्राह  
६५) ।  
ईड देखो कीड = कीट; 'दुइंसणणिवइडसारि-  
ण्ण' (गा ३०) ।  
ईडा स्त्री [ईडा] स्तुति (वेइय ८६८) ।  
ईण वि [ईण] प्रार्थी, अभिलाषी, 'प्राहाकड  
वेव निकामणी' (सुप्र १, १०, ८) ।  
ईण देखो दीण (से ८, ६१) ।  
ईति देखो ईइ (सम ६०) ।

ईदिस देखो ईइस (म १४०, अमि १८२,  
कप्प) ।  
ईर सक [ईर] १ प्रेरणा करना । २ कहना ।  
३ गमन करना । ४ फँकना । ईरेइ (विसे  
१०६०), क 'ठाणगमणणुणजोगजुजण-  
जुगतरनिवातियाए दिट्ठीए ईरियव्व' (परह  
२, १) । भूक ईरिड (श्री) (अमि ३०) ।  
ईरिय वि [ईरित्त] प्रेरित (विसे ३१४४) ।  
ईरिया देखो इरिया (सम १०, शोध ७४८,  
सुर २, १०४) ।  
ईरिस देखो ईइस (कुमा, स्वप्न ५५) ।  
ईस न [दि] खूँटा, खोला, कीलक (दे १,  
८४) ।  
ईस सक [ईर्प्] ईर्ष्या करना, द्वेष करना ।  
ईसाप्रति (गा २४०) ।  
ईस पुं [ईश] देखो ईसर = ईश्वर (कुमा;  
पठम १०२, ५८) । २ न ऐश्वर्य, प्रभुता  
(परण २) ।  
ईस देखो ईसि (कप्प) ।

ईसअ पु [दे] रोम, हरिण की एक जाति  
(दे १, ८४) ।  
ईसत्थ न [इण्वस्त्रशास्त्र] घनुर्वेद, वाण-  
विद्या (श्रीप, परह १, ५), 'विन्नाएणाए-  
कुसणा ईसत्थकयत्समा वीरा' (पठम ६८, ४०,  
पि ११७) ।  
ईसर पु [दे] मन्मथ, कामदेव (द १, ८४) ।  
ईसर पु [ईसर] १ परमेश्वर, प्रभु (हे १,  
८४) । २ महादेव, शिव (पठम १०६, १२) ।  
३ स्वामी, पति (कुमा) । ४ नायक, मुखिया  
(विपा. १, १) । ५ देवताओं का एक आवास,  
बेलघर देवों का आवास विशेष (सम ७३) ।  
६ एक पाताल कलश (ठा ४, २) । ७ आब्य,  
घनी (सुपा ४३६) । ८ ऐश्वर्य-शाली, वैभवी  
(जीव ३) । ९ युवराज । १० माण्डलिक,  
सामन्त-राजा । ११ मन्त्री (अणु) । १२  
इन्द्र विशेष, भूतवादि-निकाय का इन्द्र (ठा २,  
३) । १३ पाताल-विशेष (ठा ४) । १४ एक  
राजा का नाम । १५ एक जैन मुनि (महानि  
६) । १६ यक्ष-विशेष (पठ २७) ।

ईसर पुं [ईश्वर] अग्रिमा आदि घाठ प्रकार के ऐश्वर्य से सम्पन्न (अणु २२) ।

ईसरिय न [ऐश्वर्य] वेमव, प्रभुता, ईश्वरपन (पउम ८६, ६३) ।

ईसा स्त्री [ईसा] १ लोकपालो की अग्रमहि-पियो की एक पार्षदा (ठा ३, २) । २ पिशा-चेन्द्र की एक परिषद् (जीव ३) । ३ हल का एक काष्ठ (दे २, ६६) ।

ईसा स्त्री [ईसा] ईर्ष्या, श्रोह (गउड) । °रोस पु [°रोप] क्रोध, गुम्हा (कप्प) ।

ईसाइय वि [ईर्ष्याचित] जिसको ईर्ष्या हुई हो वह (मुपा ६१) ।

ईसाण पु [ईशान] १ देवलोक-विशेष, दूसरा देवलोक (सम २) । २ दूसरे देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३) । ३ उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान-कोण (मुपा ६८) । ४ मुहूर्त-विशेष (सम ५१) । ५ दूसरे देवलोक के निवासी देव (ठा १०) । ६ प्रभु, स्वामी (विसे) । °वडिम्मग न [°वतसक] विमान-विशेष का नाम (सम २५) ।

ईसाण पुं [ईशान] अहोरात्र का ग्यारहवाँ मुहूर्त (मुत्र १०, १३) ।

ईसाणा स्त्री [ऐशानी] ईशान-कोण (ठा १०) ।

ईसाणी स्त्री [ऐशानी] १ ईशान-कोण । २ विद्या-विशेष (पउम ७, १४१) ।

ईसालु वि [ईर्ष्यालु] ईर्ष्यालु, असहिष्णु, द्वेषी (महा, गा ६३४, प्राप्र) । स्त्री. °णी (पउम ३६, ४५) ।

ईसास देखो इस्सास, 'ईनासठ्ठाण' (निर, पि १६०) ।

ईसि अ [ईपत्] १ थोडा, अल्प (पएण ३६) । २ पृथिवी-विशेष, सिद्धि-क्षेत्र, मुक्त-भूमि (सम २२) । °पउभार वि [°प्राभार] थोडा अवनत (पचा १८) । °पउभारा स्त्री [°प्रागभारा] पृथिवी-विशेष, सिद्धि क्षेत्र (ठा ८, सम २२) ।

ईसिअ न [ईर्ष्यित] १ ईर्ष्या, द्वेष (गा ५१०) । २ वि जिसपर ईर्ष्या की गई हो वह (दे २, १६) ।

ईसिअ न [दे] १ नील के सिर पर का पत्र-

पुट, भोलो की एक तरह की पगडी । २ वि. वशीकृत, वश किया हुआ (दे १, ८४) ।

ईसि } देखो ईसि (महा, सुर २, ६६, कस; ईसी } पि १०२) ।

ईह सक [ईक्ष, ईह] १ देखना । २ विचारना । ३ चेष्टा करना । ईहए (विने ५६१) । वहु ईहत, ईहमाण (गउड, सुपा ८८, विसे २५८), सक. 'अनिघाणो ईहि-ऊण मइपुव्व' (पष ८६, विसे २५७) । ईहण न [ईहन] नीचे देखो (आचू १) ।

ईहा स्त्री [ईहा] १ विचार, ऊहापोह, विमर्श (णया १, १, सुपा ५७२) । २ चेष्टा, प्रयत्न (शोध ३) । ३ मति-ज्ञान का एक भेद (पएण १५, ठा ५) । ४ इच्छा (स ६१२) । °मिग, °मिय पुं [°मृग] १ वृक, भेडिया (णया १, १, भग ११, ११) । २ नाटक का एक भेद (राय) ।

ईहा स्त्री [ईहा] अवलोकन, विलोकन (शौप) ।

ईहिय वि [ईहित] चेष्टित (सूत्र १, १, ३) । २ विमर्शित, विचारित, ईहा-विषयोक्त (विसे २५७) ।

॥ इअ सिरिपाइअसदमहणवो ईआराइसदसंकलणो  
णाम चउत्थो तरणो समत्तो ॥

## उ

उ पुं [उ] प्राकृत वणमाला का पञ्चम अक्षर, स्वर-विशेष (प्राभा) । ° उपयोग रखना, स्वाल करना; 'उत्ति उवमोगकरणे' (विसे ३१६८) । ३ गति-क्रिया (आवम) ।

उ अ [उ] निम्नोक्त अर्थों का सूचक अव्यय— १ संवोधन, आमन्त्रण । २ कोप-वचन, क्रोधोक्ति । ३ अनुकम्पा, दया । ४ नियोग, ह्युम । ५ विस्मय, आश्चर्य । ६ अग्नीकार, स्वीकार । ७ प्रश्न, पृच्छा (हि २, २१७) ।

उ अ [तु] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ विशेषण । २ कारण (वव १) ।

उ अ [तु] इन अर्थों का द्योतक अव्यय— १ समुच्चय, धीर (कप्प) । २ अवधारण, निश्चय (आवम) । ३ किन्तु, परन्तु (ठा ३, १) । ४ नियोग, आज्ञा । ५ प्रशंसा । ६ विनिग्रह । ७ शंका की निवृत्ति (उव) । ८ पादपूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है (उव) ।

उ देखो उव, 'उमो उं' (पह २, १, ६८) ।

उ अ [उत्] निम्नोक्त अर्थों का सूचक अव्यय— १ ऊँचा, ऊर्ध्व; 'उक्कमत' (आवम) । २ विप-रीत, उलटा; 'उक्कम' (विसे) । ३ अभाव, रहितता; 'उक्कर' (णया १, १) । ४ ज्यादा,

विशेष; 'उक्कोविय' (उपपृ ७८, विसे ३५७६) । उअ अ [दे] विलोकन करो, देखो (दे १, ८६ टी; हे २, २११) ।

उअ अ [उत्] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ विकल्प, अथवा । २ वितर्क, विमर्श (कुमा) । ३ प्रश्न, पृच्छा । ४ समुच्चय । ५ वहुत, अति-शय (हे १, १७२) ।

उअ अ [दे] ऋजु, सरल (पह) ।

उअ देखो उव (गा ५०, से ६, ६) ।

उअ न [उद] पानी, जल । °सिधु पुं [°सिन्धु] समुद्र, सागर (पि ३४०) ।

उअ वि [उदञ्च] उत्तर, उत्तर दिशा मे स्थित । °महिहर पु [°महिघर] हिमाचल-पर्वत (गण्ड) ।  
 उअअ न [उदक] पानी, जल (गा ५३, से ६, ८८) ।  
 उअअ देखो उदय (से १०, ३१) ।  
 उअअ न [उदर] पेट, उदर (से ६, ८८) ।  
 उअअ वि [दे] ऋजु, सरल, सीधा (दे १, ८८) ।  
 उअअट (शौ) देखो उवगय (नाट) ।  
 उअआरअ वि [उपकारक] उपकार करने-वाला (गा ५०) ।  
 उअआर वि [उपकारिन्] ऊपर देखो (विक २५) ।  
 उअइव्व वि [उपजीव्य] आश्रय करने योग्य, सेवा करने योग्य (से ६, ६) ।  
 उअउह मक [उप + गृह] आश्रित करना । सक्र उअऊहेऊण (पि ५८६) ।  
 उअएम देखो उवएस (गा १०१) ।  
 उअञ्चण न [उदञ्चन] १ ऊँचा फेंकना । २ ढकने का पात्र, आच्छादक पात्र (दे ४, ११) ।  
 उअचिद (शौ) वि [उदञ्चित] १ ऊँचा उठाया हुआ, ऊँचा फेंका हुआ (नाट) ।  
 उअत पु [उदन्त] हकीमत, वृत्तान्त, समाचार (पाम्र; प्रामा) ।  
 उअफिट (शौ) वि [उपकृत] जिमपर उपकार किया गया हो वह (पि ६४) ।  
 उअफिअ वि [दे] पुरस्कृत, आगे किया हुआ (दे १, १०७) ।  
 उअगअ देखो उवगय (गा ६४४) ।  
 उअचित्त वि [दे] अग्रगत, निवृत्त (दे १, १०८) ।  
 उअजीवि वि [उपजीविन्] आश्रित (अभि १८६) ।  
 उअज्जाअ देखो उवज्जाय (नाट) ।  
 उअट्टी स्त्री [दे] नीवी, स्त्री के कटि-चक्र की नाड़ी; 'उअट्टी उचओ नीवी' (पाम्र) ।  
 उअट्टिअ देखो उवट्टिय (प्राप) ।  
 उअणिअ } देखो उवणीय (प्राकृ ६) ।  
 उअणीअ }  
 उअण्णास देखो उवण्णास (नाट) ।  
 उअत्तंत देखो उव्वट्ट = उद + वृत् ।

उअत्थाण देखो उवट्ठाण (नाट) ।  
 उअत्थिअ देखो उवट्टिय (से ११, ७८) ।  
 उअट्टिअ देखो उवट्ट (नाट) ।  
 उअमुत्त देखो उवमुत्त (रंभा) ।  
 उअभोग देखो उवभोग (नाट) ।  
 उअभिज्जत वक्क [उपमीयमान] जिसकी तुलना की जाती हो वह (काप्र ८६६) ।  
 उअर न [उदर] पेट (कुमा) ।  
 उअरिं } देखो उवरि (गा ६४, से ८, उअरि } ७५) ।  
 उअरी स्त्री [दे] शाकिनी, देवी-विशेष (दे १, ६८) ।  
 उअरुज्ज देखो उवरुज्ज । उअरुज्जदि (शौ) (नाट) ।  
 उअरोअ } देखो उवरोह (प्राप; नाट) ।  
 उअरोह }  
 उअलद्ध देखो उवलद्ध (नाट) ।  
 उअविट्टुअ न [और्पाविट्टक] आसन (प्राकृ १०) ।  
 उअविय वि [दे] उच्छिष्ट, 'इहरा मे णिनि-मत्त उअविय चव गुहमादी' (वृह १) ।  
 उअसपप देखो उवसपप । उअसपप (अभि ५१) ।  
 उअसम } देखो उवसम = उप + शम् ।  
 उअसम्म } उअसमद्, उवसम्मद् (प्राकृ ६६) ।  
 उअह अ [दे] देखो, देखिए (दे १, ६८, प्राप) ।  
 उअहस देखो उवहस । उअहसद् (प्राकृ ३४) ।  
 उअहार देखो उवहार (नाट) ।  
 उअहारी स्त्री [दे] दोग्ध्री, दोहनेवाली स्त्री (दे १, १०८) ।  
 उअहि पु [उदधि] १ समुद्र, सागर (गण्ड) ।  
 २ स्वनाम-ख्यात एक विद्याधर राजकुमार (पउम ५, १६६) । ३ काल परिमाण, साग-रोपम (सुर २, १३६) । ४ स्वनाम ख्यात एक जैन मुनि (पउम २०, ११७) । देखो उदहि ।  
 उअहि देखो उवहि = उपधि (पच ६) ।  
 उअहुज्जत देखो उवभुज ।  
 उअहोअ देखो उवभोग (प्रवो ३०, नाट) ।  
 उआअ देखो उवाय (नाट) ।  
 उआअण देखो उवायण (माल ४६) ।  
 उआर देखो उराल (सुपा ६०७, कप्पू) ।  
 उआर देखो उवयार (पट्ट, गण्ड) ।

उआलभ देखो उवालभ = उपा + लम् । कृ. उआलभणिज्ज (नाट) ।  
 उआलभ देखो उवालभ = उपालम्भ (गा २०१) ।  
 उआलभ देखो उआलभ = उपा + लम् । उआलभेभि (पि ८२) ।  
 उआलि स्त्री [दे] श्रवतस, शिरोभूषण (दे १, ६०) ।  
 उआस वि [उवास] नीचे देखो (पिण) ।  
 उआस देखो उवास = उपा + आस् । कवक-उआसिज्जमाण (हास्य १४०) ।  
 उआसीण वि [उदासीन] १ उदासी, दिल-गीर । २ मध्यम्य, तटस्थ (स ५४६, नाट) ।  
 उआहरण देखो उदाहरण (मन ३) ।  
 उइ सक [उप + इ] समीप जाना । उएइ, उएउ (पि ४६३) ।  
 उइ अक [उद् + इ] उदित होना । उएइ (रंभा) । वक्क उइयत (रंभा) ।  
 उइ देखो उउ, 'अन्नोवि हुंनु उइओ सरिसा परं ते' (रंभा) । °राय पु [°राज] वमन्त ऋतु (रंभा) ।  
 उइअ वि [उदित] १ उदय प्राप्त, उदगत (सुपा १२७) । २ उक्त, कथित (विसे २३३, ८४६) । °परकम पु [°पराकम] इक्ष्वाकु-वंश के एक राजा का नाम (पउम ५, ६) ।  
 उइअ वि [उचित] योग्य, लायक (से ८, १०३) ।  
 उइतण न [दे] उत्तरीय वस्त्र, चादर (दे १, १०३, कुमा) ।  
 उइद पु [उपेन्द्र] इन्द्र का छोटा भाई, विष्णु का वामन अवतार, जो अदिति के गर्भ से हुआ था (दे १, ६) ।  
 उइट्ट वि [अपकृष्ट] हीन सकुचित, 'आउसिय-अक्खम्मउइट्टुगइदेम' (रागाया १, ८) ।  
 उइण्ण देखो उदिण्ण (ठा ५, विसे ५०३) ।  
 उइण्ण वि [उदीच्य] उत्तर दिशा सम्बन्धी-उत्तर दिशा मे उत्पन्न (आवम) ।  
 उइन्न देखो ओइण्ण (सम्मत्त ७७) ।  
 उइयत देखो उइ = उद + इ ।  
 उईण देखो उदीण (राय) ।  
 उईर देखो उदीर, 'उईरइ अइपीडं' (था २७) । वक्क उईरत (पुफ १३) । सक-उईरइत्ता (सूअ १, ६) ।

उद्हरण देवो उद्दीरण (ठा ४, पुष्प १६५) ।  
 उद्हरणया } देवो उद्दीरण (विसे २५१५,  
 उद्हरणा } टी, कम्मप १५२, विसे २६६२) ।  
 उद्हरिय देवो उद्दीरिय (पुष्प २१६) ।

उज वि [उज्जु] १ ऋतु, दो मास का काल विशेष, वसन्त आदि छ प्रकार का काल (श्रीप, अन्त ७), 'उज्ज', 'उज्ज' (कप्प) ।  
 २ लो-कुनुम रजो-दर्शन, स्त्री-वर्म (ठा ५, २) ।  
 उज्ज पु [उज्ज] गीत और उज्जकाल, वर्षा-काल के अतिरिक्त आठ मास का समय (श्रोव २६, २६०, ३५८) ।  
 मास पु [मास] १ श्रावण मास (वद १ टी) ।  
 २ तीस दिनवाला मास (नम) ।  
 य वि [य] ऋतु में उत्पन्न, समय पर उत्पन्न होनेवाला (परह २, ५, राया १, १), 'उज्जप्रुत्वर-पववृवणउत्प्रमत्ताणुलेवणविहीमु । गवेसु रज्जमाणा रमति धारिणदियवसट्टा' (राया १, १७) ।

सवि पुत्री [सधि] ऋतु का सन्धि-काल, ऋतु का अन्त समय (आचा) ।  
 संवच्छर पु [सवत्सर] वर्ष-विशेष (ठा ५) ।  
 उइ = उट ।

उउवर देवो उवर = उदुम्बर (कुमा, हे १, २७०, पड्) ।

उउवहिय न [उउवद्ध] मास-कल्प, एक मास तक एक स्थान में साधु का निवास-मुद्रान (आचा २, २, ७) ।

उउवल } पुन [उदुवल] उल्लवल, शूलल  
 उउवल } (कुमा, पड्, हे १, १७१)

उएट्ट पु [दे] मित्य विशेष (अणु १४६) ।  
 उओग्गिय वि [दे] उन्नद्ध, सयुक्त (पड्) ।  
 उ ध [दे] इन अर्थों का सूचक अर्थ—१ ज्ञेय, निन्दा । २ विन्मय । ३ खेद । ४ वितर्क । ५ नृचन (प्राग् ७६) ।

उव अक [नि + ट्रा] नोद लेना । उवड् । (हे ४, १२) ।

उवहिआ स्त्री [दे] चक्रवारा (दे १, १०६) ।

उव पुन [उवड्] मित्रा (सुम १, २, ३ १४) ।

उव पु [उवड्] मित्रा, माधुकरि (उप ६७७, श्रोप ४२४) ।

उवअ पु [दे] वस्त्र धापने का काम करने वाला शिल्पी, छापी, जो कपड़ा धापता है, छोट बनाता है वह (दे १, ६८, प्राग्) ।  
 उज सक [सिच्] मोचना, छीड़कना ।  
 उजिवा (राज) । भवि—उजित्सइ (मुपा १३६) ।

उज सक [युज्] प्रयोग करना, जोड़ना, 'अहमवि उंजेमि तह किपि' (धम्म ८ टी) ।

उजायण न [उजायन] गोप-विशेष, जो वशिष्ठ-गोत्र की एक शाखा है (ठा ७) ।

उजिअ वि [सिक्त] सिक्त, छीड़का हुआ (मुपा १३६) ।

उड्ड } वि [दे] १ गभीर, गहरा (दे १,  
 उड्डग } ८५, मुपा १५, उप १४७ टी, ठा  
 उड्डय } १०, आ १६) । २ पु पिण्ड, 'वालाइ मसउडग मज्जारोडि विराहेज्जा' (श्रोव २४६ भा) । ३ चलते समय पत्र में पिण्ड रूप से लग जाय उतना गहरा कीचड़, कदम (श्रोव ३३ ना) । ४ शरीर का एक भाग, मास पिंड, 'हियउडडए' (विपा १, ५) ।

उड्डग } न [दे] म्यडिल स्थान, जगह (दस  
 उड्डुअ } ४, १, ५, १, ८७) ।

उड्डल न [दे] १ मज्ज, मज्जन, उच्चासन ।  
 २ निकर सप्पह (दे १, १२६) ।

उड्डिया स्त्री [दे] मुद्रा-विशेष (राज) ।

उडी स्त्री [दे] पिण्ड, गोलाकार वस्तु, 'तव्णं एणा वरमज्जरी दो पुट्टे परियागने पिट्टु-उंअंउरे निव्वणे निव्वहए मित्तमुट्टियमाणे मउरीअडए पसवति' (राया १, ३) ।

उदर } पुत्री [उन्दुर] मूषक, चूहा (गड्ड,  
 उदुर } परह १, १० उजा, दे १, १०२) ।

उदु न [दे] मुल, मुँह (अणु २६) ।  
 रक्क न [दे] मुँह से वृषण आदि की तरह आवाज करना (अणु २६) ।

उदुरअ पुं [दे] लम्बा दिवस (दे २, १०५) ।

उदुरु पुंस्त्री [उन्दुरु] मूषक, चूहा (दस २, ७) ।

उव पुं [उम्ब] वृक्ष-विशेष, 'निव्वउवउवउव' (उप १०३१ टी) ।

उंवर पु [उदुम्बर] १ वृक्ष-विशेष, शूलर का पेड़ (परण १) । २ न शूलर का फल (प्राग्) । ३ देहली, द्वार के नीचे की लकड़ी (दे १, ६०) ।  
 उदत्त पु [दत्त] १ यज्ञ-

विशेष (विपा १, ७) । २ एक सार्ववाह का पुत्र (विपा १, ७) ।  
 उंपचग, उंपणग न [उंपञ्चक] वड, पीपल, शूलर, प्लक्ष और काकोदुम्बरी इन पांच वृक्षों के फल (मुपा ४६, भग ६, ३३) ।  
 उंपुफ न [उंपुफ] शूलर का फूल (भग ६, ३३) ।

उंवर वि [दे] बहुत, प्रचुर (दे १, ६०) ।  
 उवरउफ न [दे] नवीन अन्तुदय, अपूर्व उत्पत्ति (दे १, ११६) ।

उवरय पुं [दे] कुष्ठ रोग का एक भेद (निरि ११४) ।

उंवा स्त्री [दे] वधन (दे १, ८६) ।

उवी स्त्री [दे] पका हुआ गेहूँ (दे १, ८६, मुपा ४७३) ।

उवेभरिया स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष (परण १) ।

उभ सक [दे] पूर्ति करना, पूरा करना (राज) ।

उक्किट्ट देवो उक्किट्ट (पिय) ।

उकुरुडिया [दे] देवो उकुरुडिया (निर १, १) ।

उक्क वि [उत्क] १ उत्सुक, उत्कण्ठित (नुर ३, ५३) । एक विद्यावर राजा का नाम (पठम १०, २०) ।

उक्क वि [उत्क] कवित (पिा) ।

उक्क न [दे] पाद-पतन, पाव पर गिर कर नमस्कार करना (दे १, ८५) ।

उक्कअ वि [दे] प्रवृत्त, फैला हुआ (पड्) ।

उक्कंचण } न [दे] १ झूठी प्रशंसा करना,  
 उक्कंचणया } बुधामद- (राया १, २) । २

ऊँचा करना, उठाना (सुम २, २) । ३ भाइ निकालना (निच् ५) । ४ घूस, रिशवत (दसा २) । ५ मूर्ख पुरुष को ठगनेवाले घूर्त का, समीपस्थ विचक्षण पुरुष के भय से थोड़ी देर के लिए निश्चेष्ट रहना (श्रीप) ।  
 उंवीप पु [उंवीप] ऊँचा बडवाला प्रदीप (अन्त) ।

उक्कळण न [दे] देवो उक्कळण (राज) ।

उक्कंठ अक [उत् + कण्ठ] उत्कण्ठा करना, उत्सुक होना । उक्कंठेहि (मै ७३) ।

वक्क उक्कंठत (मै ६३) । हेक्क उक्कंठिट्टु (श्री) (अभि १४७) ।

उक्कंठा स्त्री [उत्कण्ठा] उत्सुकता, श्रौत्सुक्य (हे १, २५, ३०) ।

उत्कण्ठिय } वि [उत्कण्ठित] उत्सुक (गा  
उत्कण्ठिय } ५४२, सुर ३, ८६, पञ्चम ११,  
उत्कण्ठुल्य } ११८, वज्ज ६० ) ।

उत्कण्ठ वि [उत्कण्ठित] खूब छटा हुआ,  
विशेष करिइत (पिंड १७१) ।

उत्कण्ठय सक [उत्कण्ठय्] पुलकित करना,  
'दियेनेवि भूअसभावणाए उत्कण्ठयंति अगाइ'  
(गउड) ।

उत्कण्ठय वि [उत्कण्ठय] पुलकित, रोमाञ्चित  
(गउड) ।

उत्कण्ठा स्त्री [दे] धूस, रिशवत (दे १,  
६२) ।

उत्कण्ठिअ वि [दे] १ आरोपित । २ खरिइत  
(पड्) ।

उत्कण वि [उत्कण्ठ] ऊंचा गया हुआ  
(भाव) ।

उत्कण्ति } स्त्री [दे] देखो उत्कण्ठा (दे १,  
उत्कण्ती } ८७) ।

उत्कण्द वि [दे] विप्रनव्य, ठगा हुआ, वञ्चित  
(पड्) ।

उत्कण्दल वि [उत्कण्दल] अकुरित (गउड) ।

उत्कण्दि } स्त्री [दे] कूपतुला (दे १, ८७) ।  
उत्कण्डी }

उत्कण्प अक [उत् + कण्प्] कांपना,  
हिलना ।

उत्कण्प पु [उत्कण्प्] कम्प, चलन (सण,  
गा ७३५) ।

उत्कण्पिय वि [उत्कण्पिय] १ चञ्चल किया  
हुआ (राज) । २ न कम्प, हिलन,  
'णीसामुक्कपिअपुलइएहि जाणंति एण्चिउ  
घरणा । अम्हारिणीहि दिट्ठे, पिअम्मि  
अप्पावि वीसरिओ' (गा ३६१) ।

उत्कण्पिय वि [दे] धवलित, सफेद किया  
हुआ (कम्प) ।

उत्कण्पण न [दे अवकम्पण] काठ पर काठ  
के हाते से घर की छत बाँधना, घर का  
संस्कार-विशेष (बृह १) ।

उत्कण्विय वि [दे. अवकम्पित] काठ से  
बाधा हुआ (राज) ।

उत्कण्छ वि [उत्कण्छ] स्फुट, स्पष्ट (पिग) ।

उत्कण्छा स्त्री [उत्कण्छा] छन्द-विशेष  
(पिग) ।

उत्कण्छिआ स्त्री [औपकक्षिकी] जैन  
साध्वियों को पहनने का वस्त्र-विशेष  
(श्रौष ६७७) ।

उत्कण्ज वि [दे] अनवस्थित, चञ्चल (पड्) ।

उत्कण्ठि स्त्री [अपकण्ठि] अपकर्ष, हानि  
(वव १) ।

उत्कण्ठि स्त्री [उत्कण्ठि] उत्कर्ष, 'महता  
उत्कण्ठिसीहणादकलकलवेण' (सुज्ज १९—  
पत्र २७८) । देखो उत्कण्ठि ।

उत्कण्ठ वि [उत्कण्ठ] १ तीव्र, प्रचण्ड, प्रखर  
(एदि, महा) । २ विशाल, विस्तीर्ण (कम्प,  
सुर १, १०६) । ३ प्रबल (उवा. सुर ६,  
१७२) ।

उत्कण्ठ देखो उत्कण्ठ (उप ६४६) ।

उत्कण्ठिय वि [दे] तोडा हुआ, छिन्न (पाघ) ।

उत्कण्ठिय देखो उत्कण्ठुय (कस) ।

उत्कण्ठड मक [उत् + कण्ठय्] उल्टू करना,  
वढ़ाना । उत्कण्ठए (कम्म ५, ६८ टी) ।

उत्कण्ठडग पु [अपकर्षक] १ चोर की एक-  
जाति—जो घर में धन आदि ले जाते हैं ।  
२ जो चोरो को बुलाकर चोरो कराते हैं । ३  
चोर की पीठ ठोकने वाले, चोर के सहायक  
(परह १, ३ टी) ।

उत्कण्ठिइय वि [उत्कण्ठित] १ उत्पाटित,  
छाया हुआ । २ एक स्थान से उठा कर  
अन्यत्र न्यापित (पिंड ३६१) ।

उत्कण्ठण वि [उत्कण्ठण] सुनने के लिए उत्सुक  
(से ६, १६) ।

उत्कण्ठत सक [उत् + कण्ठय्] काटना, कतरना ।  
वहु उत्कण्ठत (मुपा २१६) ।

उत्कण्ठत वि [उत्कण्ठत] कटा हुआ, छिन्न  
(विपा १, २) ।

उत्कण्ठण न [उत्कण्ठण] काट डालना, छेदन  
(पुष्प ३८४) ।

उत्कण्ठिय देखो उत्कण्ठत = उत्कण्ठ (पञ्चम  
५६, २४) ।

उत्कण्ठयण न [उत्कण्ठयण] उखाडना (परह  
१, १) ।

उत्कण्ठप पु [उत्कण्ठप] शास्त्र-निषिद्ध आचरण  
(पञ्चमा) ।

उत्कण्ठनाह पु [दे] उत्तम अश्व की एक जाति  
(सम्मत्त २१६) ।

उत्कण्ठ मक [उत् + कण्ठय्] १ ऊंचा जाना ।  
२ उलटे क्रम से रखना । बहु उत्कण्ठमत  
(भावम) । सक. उत्कण्ठमिऊण (विसे  
३५३१) ।

उत्कण्ठ पु [उत्कण्ठ] उलटा क्रम, विपरीत  
क्रम (विसे २७१) ।

उत्कण्ठमण न [उत्कण्ठमण] ऊर्ध्व गमन । २  
बाहर जाना (समु १७२) ।

उत्कण्ठमित वि [उत्कण्ठमित] १ प्रारब्ध । २  
क्षीण, 'अवमागमितम्मि वा दुहे, अहवा उत्कण्ठिते  
भवतीए । एगस्स गती य आगती, विदुम ता  
सरण ए मन्इ' (सूअ १, २, ३, १७) ।

उत्कण्ठ सक [उत् + कण्ठय्] खोदना । कवक.  
उत्कण्ठिउज्जमाण (भावम) ।

उत्कण्ठ पु [उत्कण्ठ] १ समूह, सघात, 'सक-  
कण्ठरमड्ढे' (मुपा ५१८) । २ कर-रहित,  
राज-देय शुल्क ने रहित (एगाया १, १) ।

उत्कण्ठ देखो उत्कण्ठर = उत्कर, 'कस्तावि  
उत्तरीय गहिइण कओ अ उत्करडो'  
(सिदि ७६५) ।

उत्कण्ठ पु [दे] १ अशुचि राशि । २ जहाँ  
मैला इकट्ठा किया जाता है वह स्थान (आ  
२७, मुपा ३५५) ।

उत्कण्ठिअ वि [दे] १ विस्तीर्ण, आयत । २  
आरोपित । ३ खरिइत (पड्) ।

उत्कण्ठिअ वि [उत्कण्ठिअ] खोदित, खोदा  
हुआ, 'टुकुक्करियव्व निच्चलनिहित्तलोयणा'  
(महा) ।

उत्कण्ठिअ (शौ) वि [उत्कण्ठिअ] ऊंचा किया  
हुआ (स्वप्न ३६) ।

उत्कण्ठिया स्त्री [उत्कण्ठिका] जैने एरण्ड के  
बीज से उसका छिलका अलग होता है उस  
तरह अलग होना, भेद-विशेष (भग ५, ४) ।

उत्कण्ठिस सक [उत् + कण्ठय्] १ खोचना ।  
२ गर्व करना, बड़ाई करना । बहु उत्कण्ठिसत  
(से १४, ६) ।

उत्कण्ठिस देखो उत्कण्ठस = उत्कर्ष (उव,  
विसे १७६६) ।

उक्करिसण न [उत्कर्षण] १ उत्कर्ष, बढाई, महत्व । २ स्थापन, आवाज ,

'उम्मिल्लइ लायएण  
पययच्छायाए सक्कय वयाए ।  
सक्कयसक्कान्कारिसरोए  
पययस्सवि पहावो ॥' (गउड) ।

उक्करिसिय वि [उत्कृष्ट] खीच निकाला  
हुआ उन्मूलित (से १४, ३) ।

उक्कल देखो उक्कड (ठा ५, ३) ।

उक्कल अक [उत् + कल्] उत्कट रूप से  
वरतना । उक्कलइ (मुल २, ३७) ।

उक्कल वि [उत्कल] १ धर्म-रहित । २ न  
चारी (पएह १, ३, टी) । २ पु देश विशेष,  
जिमको आजकल 'उडिया' या 'उडीसा'  
वहते हैं (प्रवो ७८) ।

उक्कलव मक [उत् + लम्बय्] फांसी  
लटकाना । उक्कलवेमि (स ६३) ।

उक्कलवण न [उल्लम्बन] फांसी लटकाना ।  
(स ३५८) ।

उक्कला देखो उक्कलिया (उत् ३६, १३८) ।

उक्कलिय वि [दे] उबला हुआ, गुजराती मे  
'उक्कलेतु', 'उसिणोदण तिदुक्कलिय' (विचार  
२७७) ।

उक्कलिया स्त्री [उत्कलिका] १ लूता, मकड़ी  
एक प्रकार का कीड़ा जो जाल बनाता है,  
'उक्कलियडे' (कम्प) । २ नीचे की तरफ  
वहनेवाला बाघु (जी ७) । ३ छोटा समुदाय,  
ममूह-विशेष (ठा ३, १) । ४ लहरी, तरंग  
(राज) । ५ ठहर-ठहर कर तरंग की तरह  
चलनेवाला बाघु (आचा) ।

उक्कम सक [गम्] जाना, गमन करना ।  
उक्कमइ (हे ४, १६२, कुमा) । प्रयो  
उक्कसावेइ । वक्क उक्कसावत (निचू १०) ।  
उक्कम देखो ओकस । वक्क उक्कसमाण  
(कम) । हेक्क उक्कसित्तए (आचा २, ३,  
१, १५) ।

उक्कस देखो उक्कुस (कुमा) ।

उक्कस देखो उक्कस्स = उत्कर्ष (सूत्र १,  
१, ४, १२), 'तवस्ती अइक्कसो' (दम ५,  
२, ४२) ।

उक्कसण न [उत्कर्षण] १ अभिमान करना

(सूत्र १, १३) । २ ऊँचा जाना । ३  
निवर्तन, निवृत्ति । ४ प्रेरणा (राज) ।

उक्कसाइ वि [उत्कसायिन्] सत्कारादि के  
लिए उत्कण्ठित (उत् ३) ।

उक्कसाइ वि [उत्कपायिन्] प्रबल कपाय-  
वाला (उत् १५) ।

उक्कस्स अक [अप+कृप्] १ हास प्राप्त  
होना, हीन होना । २ फिजलना, गिरना, पैर  
रपटने से गिर जाना । वक्क उक्कसमाण  
(ठा ५) ।

उक्कस्स पु [उत्कर्ष] १ गर्व, अभिमान (सूत्र  
१, १, ४, २) । २ अतिशय, उत्कृष्टता  
(भवि) ।

उक्कस्स वि [उत्कर्षयन्] १ उत्कृष्ट, ज्यादा  
से ज्यादा, 'उक्कस्सडिडियाए' (ठा १, १, ),  
'उक्कस्सा उदीरणया' (कम्मप १६६) ।  
२ अभिमानी, गर्विष्ठ (सूत्र १, १) ।

उक्का स्त्री [उल्का] १ लूका, आकाश से जो  
एक प्रकार का अगार ना गिरता है (श्लो  
३१० भा, जी ६) । २ छिन्न-मूल दिग्दाह  
(आचू) । ३ अग्नि-पिण्ड (ठा ८) । ४  
आकाश-वह्नि (दस ४) । मुह पु [मुख]  
१ अन्तर्द्वीप-विशेष । २ उनके निवासी लोक  
(ठा ४, २) । वाय पु [पात] तारा का  
गिरना, लूका गिरना । (भग ३, ६) ।

उक्का स्त्री [दे] कूप-तुला (दे १, ८७) ।

उक्काम सक [उत् + कामय्] दूर करना,  
पीछे हटाना, 'उक्कामयंति जोव धम्माओ  
तेण ते कामा' (दसनि २—पत्र ८७) ।

उक्कारिया देखो उक्करिया (पएण ११, भास  
७) ।

उक्कालिय वि [उत्कालिक] वह गाल्य,  
जिमका अयुक्त समय में ही पढने का विधान  
न हो (ठा २, १) ।

उक्कास देखो उक्कस्स = उत्कर्ष (भग १२,  
५) ।

उक्काम वि [दे] उत्कृष्ट, ज्यादा से ज्यादा  
(पड) ।

उक्कासिअ वि [दे] उत्थित, उठा हुआ (दि  
१, ११४) ।

उक्कट्ट वि [उत्कृष्ट] १ ज्यादा (पव—गा  
१५) । २ पुन इमली आदि के पत्तों का

ममूह (दस ५, १, ३८) । ३ लगातार दो  
दिन का उपवास (सवोव ५८) ।

उक्कट्ट वि [उत्कृष्ट] १ उत्कृष्ट, उत्तम (हे  
१, १२८, व २६) । २ फल का शम्भ द्वारा  
किया हुआ टुकड़ा (दस ५, १, ३४) ।

उक्कट्टि स्त्री [उत्कृष्टि] हर्षव्यति, आनन्द  
की आवाज (श्रौप, भग २, १) । देखो  
उक्कट्टि ।

उक्कण वि [उत्कीर्ण] १ खोदित, खोदा  
हुआ (अभि १८२) । २ नट (आचू २) ।

उक्कित्त वि [उत्कृत्त] कटा हुआ (ने ५,  
५१) ।

उक्कित्तण न [उत्कीर्त्तन] १ कथन (पउम  
११८, ६३) । २ प्रशंसा, ग्लाना (चउ १) ।

उक्कित्तिय वि [उत्कीर्त्तित] कथित, कहा  
हुआ (मुज्ज २० टी) ।

उक्किन वि [उत्कीर्ण] १ चर्चित, उपनिप्त,  
'चदणोक्किन्णायशरीरे' (तदु २६) । २ खोदा  
हुआ (दवनि २, १७) ।

उक्किर सक [उत् + कृ] खोदना, पत्थर आदि  
पर अक्षर वगैरह का शब्द में लिखना ।  
उक्किरइ (पि ४७७) ।

उक्किरण न [उत्करणक] अक्षत आदि से  
बढाना, बचावा, बर्चापन, 'पुप्फारुहणगाइ  
उक्किरणगाइ । पूर्य च चेडियाए तैवि  
सरज्जेमु कार्गिति' (धर्मवि ४६) ।

उक्किरिय देखो उक्किरिअ = उत्कीर्ण (आ  
१८, मुपा ५१८) ।

उक्कीर देखो उक्किर । उक्कीरसि (अणु) ।  
वक्क उक्कीरमाण (अणु) ।

उक्कीरिअ देखो उक्किरिअ = उत्कीर्ण (उप पृ  
३१५) ।

उक्कीलिय न [उत्कीलित] उत्तम क्रीडा  
(पउम ११५, ६) ।

उक्कीलिय वि [उत्कीलित] कीलक से  
नियमित, 'उक्कीलित्ठव परिथमित्ठव सुत्तुव्व  
मुक्कजात्ठव' (सुपा ४७५) ।

उक्कुचण न [उत्कुञ्चन] ऊँचे बढाना  
(सूत्र २, २, ६२) ।

उक्कुड वि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे १, ६१) ।

उक्कुक्कुर अक [उत् + स्था] उठना, खड़ा  
होना । उक्कुक्कुरइ (हे ४, १७, पड) ।

उत्कृञ्ज प्रक [ उत् + कृञ् ] ऊँचा होकर नीचा होना । सकृ, उत्कृञ्जिय (आचा) ।

उत्कृञ्जिय न [ उत्कृञ्जित ] अव्यक्त शब्द (नीच) ।

उत्कृष्ट न [ उत्कृष्ट ] वनस्पति का कूटा हुआ पूर्ण (आचा, निच १, ४) ।

उत्कृष्ट वि [ उत्कृष्ट ] ऊँचे स्वर से आकृष्ट (दे १, ४७) ।

उत्कृष्टुग } वि [ उत्कृष्टुग ] आमन विशेष,  
उत्कृष्टुय } निपद्या-विशेष (भग ७, ६, श्रौष ६५६ भा, राया १, १) । स्त्री उत्कृष्टुई (ठा ५, १) । 'सणिय वि [ 'सणिक ] उत्कृष्टुक-आमन से स्थित (ठा ५, १) ।

उत्कृष्टुअक [ उत् + कृष्टु ] कूटना, उछलना । उत्कृष्टुइ (उत् २७, ५) ।

उत्कृष्टुआ देवो उत्कृष्टुडिया (ती ११) । उत्कृष्टुड पु देवो उत्कृष्टुडी (कुप्र ५५) ।

उत्कृष्टुड पु [ दे ] राशि, ढेर (दे १, ११०) । उत्कृष्टुडिया } स्त्री [ दे ] घूरा, कूडा डालने  
उत्कृष्टुडिया } की जगह (उव ५६३ टी, विपा उत्कृष्टुडी १, १, राया १, २, दे १, ११०) ।

उत्कृष्टुस सक [ गम् ] जाना, गमन करना । उत्कृष्टुइ (हे ४, १६०) ।

उत्कृष्टुस वि [ उत्कृष्टु ] उत्तम, श्रेष्ठ (कुमा) । उत्कृष्टुइय न [ उत्कृष्टित ] अव्यक्त महा-ध्वनि (पएह १, १) ।

उत्कृष्टुल वि [ उत्कृष्टुल ] १ सन्मार्ग से अष्ट करनेवाला । २ किनारे से बाहर का । ३ न. चोरी (पएह १, ३) ।

उत्कृष्टुव प्रक [ उत् + कृष्टु ] अव्यक्त आवाज करना, चिल्लाना । वक्र उत्कृष्टुवमाण (विपा १, ८, निर ३, १) ।

उत्कृष्टुव पु [ उत्कृष्टु ] १ समूह, राशि, ढेर (कुमा, महा) । २ करण-विशेष, कर्मों की स्थित्यादि को बढ़ाना (विते २५१४) । ३ भिन्न, एररड के बीच की तरह जो अलग किया गया हो वह (राज) ।

उत्कृष्टुव पु [ दे ] उपहार, मेंट (दे १, ६६) । उत्कृष्टुविय वि [ दे ] उकेलाया हुआ, खुलवाया हुआ, 'राइया उत्कृष्टुवियाई चोलन-याई, निरुवियाई ममन्तयो, जाव दिट्ट

कत्यइ-सुवरण, कत्यइ रूपय, कत्यइ मणि-मोत्तियपवालाड' (महा) ।

उत्कृष्टुय वि [ दे ] श्वरोध-रहित किया हुआ, घेरा उठाया हुआ (स ६३९) ।

उत्कृष्टुड न [ दे ] राज-कुल में दातव्य द्रव्य, राजा आदि को दिया जाता उपहार (वव १ टी) ।

उत्कृष्टुडा स्त्री [ दे ] घूस, रिशवत (दे १, ६२, पएह १, ३, विपा १, १) ।

उत्कृष्टुडिय वि [ दे ] घूस लेकर कार्य करने-वाला, घुसखोर (राया १, १, श्रौष) ।

उत्कृष्टुडी स्त्री [ दे ] प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि (दे १, ६४) ।

उत्कृष्टुय वि [ उत्कृष्टुय ] प्रखर, उत्कट (सण) । उत्कृष्टुयण देखो उत्कृष्टुयण (भवि) ।

उत्कृष्टुया स्त्री [ उत्कृष्टुया ] १ घूस, रिशवत । २ मूलों को ठगने में प्रवृत्त घूतं पुरुष का, समीपस्थ विचक्षण पुरुष के भय से थोड़ी देर के लिए अपने कार्य को स्थगित करना (राज) ।

उत्कृष्टुयल पु [ दे ] घाम, घूप, गरमो (दे १, ८७) ।

उत्कृष्टुयण न [ उत्कृष्टुयण ] उद्दीपन, उत्तेजन, 'मयणुककोवण' (भवि) ।

उत्कृष्टुयिअ वि [ उत्कृष्टुयिअ ] अत्यंत क्रुद्ध किया हुआ (उप पृ ७८) ।

उत्कृष्टुयस सक [ उत् + कृष्टु ] १ रोना, चिल्लाना । २ तिरस्कार करना । वक्र उत्कृष्टुयसत (राज) ।

उत्कृष्टुयस वि [ उत्कृष्टुयस ] उत्कृष्ट, प्रवान, मुख्य (पचा १, २) ।

उत्कृष्टुयस पु [ उत्कृष्टुयस ] १ प्रकर्ष, प्रतिशय, 'उत्कृष्टुयसजहल्लेण अतमुहुत्त चिय जियंति' (जी ३८, श्रौष) । २ गर्व, अभिमान (सूय १, २, २, २६, सम ७१, ठा ४, ४—पत्र २७४) ।

उत्कृष्टुयस वि [ उत्कृष्टुयस ] उत्कृष्ट, अधिक से अधिक, 'सुरनेरइयाण ठिई उत्कृष्टो सागराणि तित्तीस' (जी ३६), 'कोसतिगं च मणुस्सा उत्कृष्टसरीरमाणेण' (जी ३२), 'तयो वियड-त्तीयो पडिगाहित्तए, तं जहा—उत्कृष्टोसा, मज्जिमा, जहएणा' (ठा ३, उव) ।

उत्कृष्टुयस पु [ उत्कृष्टुयस ] १ कुरर, पक्षि-विशेष

(पएह १, १) । २ वि जोर से चिल्लाने-वाला (राज) ।

उत्कृष्टुयसण न [ उत्कृष्टुयसण ] १ क्रन्दन । २ निर्मत्तन, तिरस्कार, 'उत्कृष्टुयसणतजएताइयाओ

अवमाणहीलणाओ य । मुणियाओ मुणियापरभवा

दढपहारिख्व विसहति' (उव) । उत्कृष्टुयसा स्त्री [ उत्कृष्टुयसा ] कोशानामक एक प्रमिद्ध वेरया (धर्म वि ६७) ।

उत्कृष्टुयसिअ वि [ उत्कृष्टुयसिअ ] भस्तिंत, तिरस्कृत, दुतकारा हुआ (उप पृ ७८) ।

उत्कृष्टुयसिअ वि [ उत्कृष्टुयसिअ ] देखो उत्कृष्टुयस = उत्कृष्ट (कप्प, भत्त ३७) ।

उत्कृष्टुयसिअ पु [ उत्कृष्टुयसिअ ] १ गोत्र-विशेष का प्रवर्तक एक ऋषि । २ न गोत्र-विशेष, 'धेरमस ए अजजवइरसेणमस उत्कृष्टुयसोत्तमस (कप्प) ।

उत्कृष्टुयसिअ वि [ दे ] पुरस्कृत, आगे किया हुआ (पड्) ।

उत्कृष्टुयसिया स्त्री [ उत्कृष्टुयसिया ] उत्कर्ष, आविष्य (भग) ।

उत्कृष्टुयसिअ देखो उत्कृष्टुयस = उत्कृष्ट (विते ५८७) ।

उत्कृष्टुयस सक [ उत्कृष्टुयस ] सीचना (सूय २, २, ५५) ।

उत्कृष्टुयस [ उत्कृष्टुयस ] १ सवन्व (राज) । २ जैन साध्वियों के पहनने के वस्त्र-विशेष का एक अंश (वृह १) ।

उत्कृष्टुयस देखो उत्कृष्टुयस = उत्कृष्ट (पाप्र) ।

उत्कृष्टुयसिअ वि [ उत्कृष्टुयसिअ ] व्याप्त, भरा हुआ (से १, ३३) ।

उत्कृष्टुयसड सक [ उत् + खण्डय ] तोड़ना, टुकड़ा करना । वक्र उत्कृष्टुयसडत (नाट) ।

उत्कृष्टुयसड पु [ दे ] १ सघात, समूह । २ स्वपृष्ठ, विपमोन्त प्रदेश (दे १, १२६) ।

उत्कृष्टुयसडण न [ उत्कृष्टुयसडण ] उत्कर्ष, विच्छेदन (विक्र २८) ।

उत्कृष्टुयसडिअ वि [ उत्कृष्टुयसडिअ ] खींचत, छिन्न (से ५, ४३) ।

उत्कृष्टुयसडिअ वि [ दे ] आक्रान्त, दबाया हुआ (से १, ११२) ।



उक्खंद पु [अवस्कन्द] १ घेरा डालना ।  
 २ उन ने शत्रु-मैत्र्य को मारना (परह १, २) ।  
 उक्खम पु [उत्तम्भ] श्रवलम्ब, सहारा  
 (सया) ।  
 उक्खमभिय देखो उत्तमभिय (भवि) ।  
 उक्खमभिय न [औत्तम्भिक] श्रवलम्ब,  
 सहारा (राज) ।  
 उक्खमड्डा श्र [दे] पुन पुन, बारवार  
 'उक्खमड्डति वा भुजो भुजोति वा पुणो  
 पुणोति वा एगट्ठा' (वव १) ।  
 उक्खण सक [उत् + ग्वन्] उखाडना, उच्छेदन  
 करना, काटना । उक्खणादि (परह १,  
 १) । सक उक्खणिकण (नीच १) । कम्मं  
 उक्खम्मति (पि ५४०) । कवक्क उक्खम्मत  
 (से ७, २८) । क्क उक्खम्मिअव्व (से  
 १०, २६) ।  
 उक्खण सक [दे] खांडना, मुसल वगैरह से  
 ग्रीहि आदि का छिलका दूर करना (दे  
 १, ११५) ।  
 उक्खण वि [दे] श्रवकीर्ण, चूर्णित (पड्) ।  
 उक्खण न [उत्खनन] उन्मूलन, उत्पादन  
 (वह १, १) ।  
 उक्खणण न [दे] खांडना, निन्दुपीकरण  
 (दे १, ११५ टी) ।  
 उक्खणिअ न [दे] खरिडत, निन्दुपीकृत  
 (दे १, ११५) ।  
 उक्खण देवा उक्खण (पि ६०, १६३,  
 ५६६) ।  
 उक्खम्मं देखो उक्खण = उत् + खन् ।  
 उक्खण वि [उत्खात] १ उखाटा हुआ,  
 उन्मूलित (साया १, ७, हे १, ६७, पड्,  
 महा) । २ खुना हुआ, उच्छादित,  
 'गल्पन्तरम्मि पत्तो, नुदादविआहरो वहि भवरो ।  
 उक्खणखगा विट्ठा, सूयारा तेणवि दुवारं'  
 (सुवा ८००) ।  
 उक्खल } देखो उक्खल (हे २, ६०, मूअ  
 उक्खल) १, ४, २, १२) ।  
 उक्खलिय वि [दे उत्तण्डित] उन्मूलित,  
 उत्पादित (से ६, २६) ।  
 उक्खलिया } स्त्री [दे] चानी, पात्र-विशेष  
 उक्खली } (दे १, ८८) । 'उक्खलिया  
 धानी जा साधुणिमित्त मा आहाकम्मिया'  
 (निचु १) ।

उक्खा स्त्री [उखा] स्याली, भाजेन-विशेष  
 (आचा २, १, १) ।  
 उक्खाड्ड (श्री) वि [उत्खातित] उद्वृत्त  
 (उत्तर ६७) ।  
 उक्खाय देखो उक्खय (हे १, ६७, गा  
 २७३) ।  
 उक्खाल सक [उत् + खन्, खाल्य्]  
 उखाडना, उन्मूलन करना । संक्क उक्खल-  
 इत्ता (रमा) ।  
 उक्खण देखो उक्खण = उत् + खन् । उक्ख-  
 णमि (भवि) । संक्क उक्खणिवि (श्रप)  
 (भवि) ।  
 उक्खणण वि [दे] १ श्रवकीर्ण, ध्वस्त,  
 चूर्णित । २ आच्छन्न, गुप्त । ३ पारवं में  
 शिथिल, एक तरफ से टीला (दे १, १३०) ।  
 उक्खणत्त } वि [उत्खनत्त] १ फेंकना हुआ ।  
 उक्खणत्तय } २ ऊँचा उठाया हुआ (पात्र) ।  
 ३ ऊँचा किया हुआ (साया १, १) । ४  
 उन्मूलित, उत्पादित (राज) । ५ बाहर  
 निकाला हुआ (परह २, १) । ६ उत्थित  
 (पिग) । ७ न. गेय-विशेष (राय, ठा ८,  
 ४) । चरय वि [चरक] पाक पात्र से  
 बाहर निकाले हुए भोजन को ही ग्रहण करने  
 का नियमवाला (साधु) (परह २, १) ।  
 उक्खणप देखो उक्खणय = उत् + खिप् ।  
 उक्खणय वि [उत्तित] सिक्क, सींचा हुआ;  
 'चदणोक्खियगायमरीरे' (सूअ २, २, ५५,  
 कम्म) ।  
 उक्खण मक [दे] उखाडना । प्रयो, हेक्क,  
 'उक्खणहाविउ माळतो धूमो' (सी ७) ।  
 उक्खण सक [उत् + खिप्] स्थापन  
 करना, 'मुयम्म य भगवओ चैव नाम उक्खि-  
 विस्तामो' (स १६२) ।  
 उक्खण सक [उत् + खिप्] १ फेंकना ।  
 २ ऊँचा फेंकना । ३ उठाना । ४ बाहर  
 करना । ५ काटना । ६ उठाना । उक्खण-  
 (सूक ५६) । वक्क 'पाएवि उक्खणवती न  
 सज्जति णट्टिया सुणेवत्या' (वह ३) । सक  
 उक्खणविउ, उक्खणप (पि ५७५, आचा  
 २, २, ३) । कवक्क उक्खणपत्त, उक्खि-  
 पमाण (से ६, ३५, परह १, ४),  
 उक्खणपत्त (से २, १३) ।

उक्खेवण न [उत्तेपण] १ फेंकना, दूर  
 करना । २ वि दूर करनेवाला (कुमा) ।  
 उक्खेवणा स्त्री [उत्तेपणा] बाहर करना,  
 दूर करना (वह १) ।  
 उक्खेविय देखो उक्खेवत्त (सुर २, १८०) ।  
 उक्खुड पु [दे] १ उल्मुक, अलात, मशाल ।  
 २ समूह । ३ वज्र का एक श्रय, श्रञ्चल (दे  
 १, १२०) ।  
 उक्खुड सक [तुड्] तोडना, टुकड़ा करना ।  
 उक्खुड्ड (हे ४, ११६) ।  
 उक्खुडिअ वि [तुडित] १ खरिडत, छिन्न,  
 भिन्न (कुमा, से ४, २१, सुपा २६२) । २  
 व्यय किया हुआ, खर्च किया हुआ,  
 'एतियकाला इरिह, उक्खुडिय  
 सालिमाइय नाउ ।  
 तुह जोगं तो सहसा,  
 पुणो पुणो कुट्टिय हिययं'  
 (सुपा १५) ।  
 उक्खुत्त वि [दे उत्कृत्त] काटा हुआ,  
 'रणु दुरदनुक्खुत्तिसवलिय तिलच्छेत्त' (गा  
 ७६६) ।  
 उक्खुत्तम श्रक [उत् + क्षुम्] क्षुब्ध होना ।  
 उक्खुत्तमइ (प्राक्क ७५) ।  
 उक्खुत्तुंविअ वि [दे] उत्क्षिप्त, फेंका हुआ  
 (दे १, ४) ।  
 उक्खुत्तं सक [दे] खुजवाना । सक उक्खु-  
 त्तपिय (आचा २, १, ६, २) ।  
 उक्खुत्तिअ वि [उत्क्षुत्तव] क्षुब्ध, क्षोभ-प्राप्त  
 (से ७, ६६) ।  
 उक्खेव पु [उत्तेप] १ उत्पादन, उन्मूलन  
 (श्रौप) । २ ऊँचा करना (गड्ड) । ३ जो  
 उठाया जाय वह, 'उक्खेवे निकखेवे महल्ल-  
 भाणम्मि' (पिड ५७०) ।  
 उक्खेव पुं [उत्तेप] उपोद्घात, भूमिका  
 (उवा; विपा १, २, ३, ४) ।  
 उक्खेवग वि [उत्तेपक] १ ऊँचा फेंकने-  
 वाला । २ पुं एक जाति का पखा, व्यजन-  
 विशेष (परह २, ५) ।  
 उक्खेवण न [उत्तेपण] १ फेंकना (पट्टम  
 ३७, ५०) । २ उन्मूलन, उत्पादन (सूअ  
 २, १) ।

उक्त्वेविअ वि [उक्त्वेपित] जनाया हुआ (घूप) (भवि) ।  
 उक्त्वेविअ वि [उक्त्वेपित] १ उक्त्विप्त, उठाय़ा हुआ (पाप्र) । २ छिन्न, उखाड़ा हुआ (दे १, १०५, १११) ।  
 उग-अक [उत् + गम्] उदित होना ।  
 उगइ (नाट) ।  
 उग (अप) वि [उद्गत] उदित (पिग) ।  
 उगाहिअ वि [दे] उक्त्विप्त, फेंका हुआ (पड) ।  
 उगुणपन्न क्षीन [एकोनपञ्चाराण्] जनपचाय, ४६ (सुज्ज १०, ६ टी) ।  
 उगुणयीसा स्त्री [एकोनविंशति] उन्नीस, १६ (सुज्ज १०, ६ टी) ।  
 उगुणुत्तर न [एकोनसप्तति] उनहत्तर, ६६, 'उगुणुत्तराड' (सुज्ज १०, ६ टी) ।  
 उगुनउड स्त्री [एकोननवति] नवासी, ८६ (कम्म ६, ३०) ।  
 उगुसीइ स्त्री [एकोनाशीति] जनासी, ७६ (कम्म ६, ३०) ।  
 उगा अक [उद् + गम्] उदित होना । उगे (पिग) । वकृ उग्गत, 'देव । पणयज-राकल्लाणक दुट्टविषट्टणुगगतमिह-(?हि) । राणु-गारिणो' (धर्मा ५) ।  
 उगा सक [उद् + घाटय्] खोलना । उगाइ (हे ४, ३३) ।  
 उगा वि [उग्र] १ तेज, तीव्र, प्रबल (पचम ८३, ४) । २ पु क्षत्रिय की एक जाति, जिसको भगवान् आदिदेव ने आरक्षक-पद पर नियुक्त की थी (ठा ३, १) । 'वई स्त्री [वती] ज्योति-शाम्भ-प्रमिद्ध नन्दा-तिथि की रात (ज ७) । 'सिरि पु [श्रीक] राधन वश का एक राजा, स्वनाम-ख्यात एक लक्षे (पचम ५, २६४) । 'सेण पु [सेन] मथुरा नगरी का एक यदुवशीय राजा (राया १, १६, अत) ।  
 उगाठ सक [उत् + ग्रन्थ्] खोलना, गाँठ खोलना । सकृ उगाठिज्ण (हम्मौर १७) ।  
 उगाघ वि [उद्गन्ध] अत्यन्त सुगन्धित (गडह) ।  
 उगाच्छ्र } अक [उद् + गम्] उदय  
 उगाम } होना । उगाच्छ्रदि (शौ) (नाट) ।

उगमइ (वजा १६) । उगमेज (काल) ।  
 वकृ. उगमत, उगममाण (सुपा ३८, पण १) ।  
 उगम पु [उद्गम] १ उत्पत्ति, उद्भव, 'तल्लुगमो पनूई पभवो एमाई होंति एगट्टा' (राज) । २ उदय, 'सूखामो' (सुर ३, २५०) । ३ उत्पत्ति मे सम्बन्ध रखनेवाला एक मित्रा-दोष (शोध ६५, ८३० भा. ठा १०) ।  
 उगमण न [उद्गमन] उदय (मिरि ४२८, नुज्ज ६) ।  
 उगामिय वि [उद्गमित] उपाजित (निच्च २) ।  
 उगाय वि [उद्गत] उत्पन्न, जात (आव ३) । २ उदित, उदय-प्राप्त (सुर ३, २४७) । ३ व्यवस्थित (राज) ।  
 उगाह सक [रचय्] रचना, बनाना, निर्माण करना । कणा । उगाहह (हे ४, ६४) ।  
 उगाह नक [उद् + ग्रह] ग्रहण करना । उगाहेइ (भग) । सकृ उगाहिच्चा (भग) ।  
 उगाह पु [अवग्रह] इन्द्रिय द्वारा होनेवाला सामान्य ज्ञान-विशेष (विसे) । १ अवधारण, निश्चय (उत्त) । २ प्राप्ति, लाभ (आचू) । ४ पात्र, भाजन (पचा ३) । ५ साध्वियों का एक उपकरण (शोध ६६६, ६७६) । ६ योनिद्वार (वृह ३) । ७ ग्रहण करने योग्य वस्तु (पण १, ३) । ८ आश्रय, आवास-स्थान, वसति (आचा), 'आहापडिख्वं उगाह भोगिन्हिता' (राया १, १) । ९ वह वस्तु, जिसपर अपना प्रभुत्व हो, अमीन चीज (वृह ३) । १० देव या गुरु से जितनी दूरी पर रहने का साम्प्रोच विधान है उतनी जगह, मर्यादित भू-भाग, पूर्वादि की चारों तरफ की शरीर-प्रमाण जमीन, 'भणुजाणह मे मिउ-गह' (पडि) । 'णउ, 'णतग न [ानन्न, 'क] जैन साध्वियों का एक गुह्याच्छादक वस्त्र, जाघिया, लगेट, 'द्यादतोगहणत' (वृह ३) । 'पट्ट' 'पट्टग पुन [पट्ट, 'क] देखो पूर्वोक्त अर्थ, 'नो कप्पइ निग्गयाणं उगाहणं वा उगाहणं वा धारित्तए वा परिहरित्तए वा' (वृह ३) ।

उगाह पु [अवग्रह] परोक्षने के लिए उठाय़ा हुआ भोजन (सूय २, २, ७३) ।  
 उगाहण न [अवग्रहण] इन्द्रिय द्वारा होनेवाला सामान्य ज्ञान, 'अत्याणं उगाहण अवग्रह' (विसे १७६) ।  
 उगाहिअ वि [रचित] १ निमित्त, विहित (कुमा) ।  
 उगाहिअ वि [अवग्रहीत] १ सामान्य रूप से ज्ञात । २ परोक्षने के लिए उठाय़ा हुआ (ठा १) । ३ गृहीत । ४ आनीत । ५ मुख में प्रक्षिप्त, 'तिविहे उगाहिए परणत्ते,—ज च उग्गिणहइ, ज च साहरइ, ज च आनगम्मि पक्खिवति' (वव २, ८) ।  
 उगाहिअ वि [दे] निपुण-गृहीत, अच्यौ तरह लिया हुआ (दे १, १०४) ।  
 उगा सक [उद् + गै] १ ऊँचे स्वर से गान करना । २ बरान करना । ३ श्लाघा करना, 'उगाइ गाइ हसइ, असंबुडो मय करेइ कदपं । गिहिकज्जचित्तगो वि य, श्रोमन्ने देइ गेएहइ वा' (उव) । वकृ उगायत (सुर ८, १८६) । कवकृ उग्गीयमाण (पचम २, ४१) ।  
 उगाठ वि [उद्गाठ] १ अति गाढ, प्रबल (उप ६८६ टी, सुपा ६४) । २ म्वन्ध, तन्दुल्लन (वृह १) ।  
 उगामिय वि [उद्गमित] ऊपर उठाय़ा हुआ, ऊँचा किया हुआ (सुल १, १४) ।  
 उगायत देखो उगा ।  
 उगार } पु [उद्गार] १ वचन, उक्ति, 'ति उगाल } पिमुणा जे रा नहति पिग्गुणा परगुणुगारे' (गडड) । २ शब्द, आवाज, ध्वनि, 'तियमरूपेस्त्रियवरणो एहइदुहिवहल-गज्जिउगारो', 'अहिताडियकनुगारकंफणा-पडिरवाहोयो' (गडड) । ३ डकार । ४ वमन, श्लोक (नाट, कस), 'जिण्णकारणण-उज्जतमयणधूमुगारेण विव केमकलावेण' (स ३१३, निच्च १०) । ५ जन का छोटा प्रवाह, 'उगाला छिद्रोली' (पाप्र) । ६ रोमय, पशुराना, 'रोमयो उगालो' (पाप्र) ।  
 उगाल पु [दे उद्गाल] पान की पिचकारी (पच ३८) ।

उग्गाह पु [उद्गार] विनिर्गम, बाहर निकलना (वव १)।

उग्गाह सक [उद् + ग्रह्] ग्रहण करना, 'भायणवत्थाइ पमजइ, पमजइत्ता भायणएटं उग्गाहेइ' (उवा)। सक उग्गाहेत्ता जेणेव समण भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ' (उवा)।

उग्गाह सक [अव + गाह्] अवगाहन करना, 'उग्गाहेति नाणाविहामो चिनिच्छा-सहियाओ' (न १७)।

उग्गाह सक [उद् + दाह्य] १ तगादा करना। २ ऊँचे में चलना। उग्गाहइ (प्राकृ ७२)।

उग्गाह पु देखो उग्गाहा (पिंग)।

उग्गाहण न [उद्ग्राहण] तगादा, दी हुई चीज की माँग (मुपा ५७८)।

उग्गाहणिया स्त्री [उद्ग्राहणिका] ऊपर देखो, 'उज्जागपालयाण पानम्मि गयो तथा सोवि। उग्गाहणियाहेउ' (मुपा ६३२)।

उग्गाहणी स्त्री [उद्ग्राहणी] ऊपर देखो (द्र ६)।

उग्गाहा स्त्री [उद्गाधा] छन्द-विशेष (पिंग)। उग्गाहिय वि [दे उद्ग्राहित] १ गृहीत, लिया हुआ। २ उद्विग्न, फँका हुआ। ३ प्रवर्तित (दे १, १३७)। ४ उच्चालित, ऊँचे से चलाया हुआ (पाप्र. स २१२)।

उग्गाहिम वि [अवगाहिम] तली हुई वस्तु। (पणह २, ५)।

उग्गिणण वि [उद्गोर्ण] १ उक्त, कथित उग्गिणण } (भवि)। २ वास्त, उद्गोर्ण (शाया १, १)। ३ उठायी हुआ, ऊपर किया हुआ।

'उग्गिण्णखग्गमवल अवलोइय

नरवईवि विम्हइमो।

चित्तेइ भहो घट्टा, मज्ज वड्डा

इह पविट्ठा' (सुर १६, १४७)।

'निइय। नियविणीवह-

कलकमलियाणव रे तुमं जाओ।

उग्गिण्णखग्गपसरतकत्तिसा-

मलियसव्वंगो' (मुपा ५३८)।

उग्गिर देखो उग्गिल। उग्गिरेइ (भुद्रा १२१)।

वक्क उग्गिरत (काल)।

उग्गिरण न [उद्गरण] १ वास्ति, वसन, वय। २ उक्ति, कथन।

'माणमिणोवि अवमाणवचणा ते परम्म न वरंति।

मुहदुम्भुग्गिरणएथ, धाह

उयहिच्च गंभोरा' (उव)।

उग्गिल सक [उद् + गृ] १ कहना, बोलना।

२ टकार करना। ३ उलटी करना, वसन

करना। ४ उठाना। वक्क 'अग्गिजालुग्गिलत

वयण' (शाया १, ८)। सक उग्गिलित्ता

(कन), उग्गिलेत्ता (निवू १०)।

उग्गिलिअ देखो उग्गिणण (पाप्र)।

उग्गीय वि [उद्गीत] १ उच्च स्वर से गाया

हुआ (दे १, १६३)। २ न संगीत गीत, गान

(से १, ६५)।

उग्गीयमाण देखो उग्गा।

उग्गीर देखो उग्गिर। वक्क 'सवग उग्गीरंतो

इत्थिवहत्थं, हयामलोयाण' (मुपा १५८)।

उग्गीरिअ देखो उग्गिणण, 'उग्गीरिओ ममो-

वरि, जमजोहादीहतरलकरवालो' (मुपा १५८)।

उग्गीव वि [उद्गीव] उक्कणित्त, उमुक

(कुमा)। १ कथय वि [कथय] उक्कणित्त

किया हुआ (उप १०३१ टी)।

उग्गुलुद्धिआ स्त्री [दे] हृदय-रस का उद्यतना,

भावोद्देक (दे १, ११८)।

उग्गोव सक [उद् + गोपय्] १ खोजना।

२ प्रकट करना। ३ विमुग्ध करना। वक्क

'इथो वा पुरिसे वा नुविण्णते एग मह

किणहमुत्तग वा जाव सुक्किल्लमुत्तग वा

पासमाणे पासति उग्गोवेमाणे उग्गोवेइ'

(भग १६, ६)।

उग्गोवणा स्त्री [उद्गोपना] १ खोज,

गवेषणा;

'एसण गवेसणा लग्गणा

य उग्गोवणा य बोद्धवा।

एए उ एसणाए नामा

एगक्खिया होति' (पिड ७३)।

२ देखो उग्गम, 'उग्गम उग्गोवण मग्गणा

य एगद्धियाणि एयाणि' (पिड ८५)।

उग्गोविय वि [उद्गोपित] विमोहित, आन्त,

'उग्गोवियमिति अप्पाएणं मन्तति' (भग

१६, ६)।

उग्घ देवा उप। उग्घ (पट्)।

उग्घट्टि स्त्री [ट्ट] श्रवतं, शिरो-भूषण (दे उग्घट्टी) १, ९०)।

उग्घट्ट मक [उद् + घाटय्] खोजना (प्राभा)।

उग्घट्ट अक [उद् + घट्] चुनना।

उग्घट्ट (मिग्गि ५०४)। उग्घट्टति (घर्मे

वि ७६)।

उग्घट्टिअ वि [उद्घाटित] चुना हुआ (घर्मे

वि ७७)।

उग्घट्टिअ वि उद्घाटित चुना हुआ। २

छिन्न, नष्ट किया हुआ (से ११, १३०)।

उग्घर वि [उद्घरह] गृह-ध्यायी, जिसने

घग्घार छोड़ कर सन्यास लिया हो वह,

साधु।

'चदोव्व कालपक्खे परिहाईएए एए पमायपणे।

तह उग्घरविग्घरनिरंगणो वि नय इच्छिय लहइ'

(शाया १, १० टी)।

उग्घय देखो अग्घव। उग्घय (हे ४, १६०

टि, राज)।

उग्घसिय न [अवघसिय] घपंण (राय ६७)।

उग्घाअ पु [दे] १ मरह, संघात (दे १,

१२६, न ७७, ४२६, गठठ; से ५, ३४)।

२ न्यपुट, विपमोन्नत प्रदेश (दे १, १२६)।

उग्घाअ पु [उद्घान] १ आरम्म, प्रारम्भ

'उग्घाओ आरमो' (पाप्र)। २ प्रतिघात ठीकर

लगना। ३ लघुकरण, भाग-पात (ठा ३)।

४ उपोद्घात, भूमिका (विसे १३४८)। ५

हास (ठा ५, २)। ६ न, प्रायश्चित्त-विशेष।

७. निशेध मूत्र का एक अण, जिसमें उक्त

प्रायश्चित्त का वर्णन है, 'उग्घायमणुग्घाचं

आरोवण तिविहमो निसीह तु' (प्राव ३)।

उग्घाअ सक [उद् + घाटय्] विनाश

करना। उग्घाएइ (उत्त २६, ६)।

उग्घाइम वि [उद्घातिम] १ लघु, छोटा।

२ न लघु प्रायश्चित्त (ठा ३)।

उग्घाइय वि [उद्घातित] १ विनाशित (ठा

१०)। २ न लघु प्रायश्चित्त (ठा ५)।

उग्घाइय वि [उद्घातित] लघु प्रायश्चित्त

वाला (वव १)।

उग्घाइय न [उद्घातिक] लघु प्रायश्चित्त

(कस)।

उगघाड सक [ उद् + घाट्य ] १ खोलना । २ प्रकट करना । ३ बाहर करना । उगघाडह (हे ४, ३३) । उगघाडए (महा) । सक उगघाडिऊण (महा) । कृ उगघाडिअव्व (श्रा १६) । कवक उगघाडिज्जत (से ५, १२) ।

उगघाड पुं [ उद्घाट ] प्रकट, प्रकाश, 'किन्तु कसो बहुएह उगघाडो निययकम्माण' (मिरि ५२८) ।

उगघाड, देखो उगघाड = उद् + घाट्य । हेकू 'त निणहरस्स दार केणवि नो सक्किय ज्वाडेड' (सिरि ५२८) ।

उगघाड वि [ उद्घाट ] १ खुला हुआ, अनाच्छादित (पद्म ३६, १०७) । २ थोडा बन्द किया हुआ; 'उगघाडकवाडउगघाडएण' (श्राव ४) । ३ व्यक्त, प्रकट । ४ परिपूर्ण, अन्तून 'एधतरम्मि उगघाडपोरिसोसुयगो वली पत्तो' (सुपा ६७) ।

उगघाडण न [ उद्घाटन ] १ खोलना (श्राव ४) । २ बाहर करना, बाहर निकालना (उप ४ ३६७) ।

उगघाडणा स्त्री [ उद्घाटना ] ऊपर देखो (श्राव ४) ।

उगघाडिअ वि [ उद्घाटित ] १ खुला हुआ । २ प्रकटित, प्रकाशित (से २, ३७) ।

उगघायण न [ उद्घाटन ] १ नाश, विनाश (श्राचा) । २ पूज्य-स्वान, उत्तम जगह । ३ सरोवर मे जाने का मार्ग (श्राचा २, ३) ।

उगघार पु [ उद्घार ] सिञ्चन, छिडकाव, 'त्रिणितरुहिरुघारं निवडिओ घरणिवट्टे' (स ५६८) ।

उगघट्ट वि [ उद्घट्ट ] सघट्ट, 'नमिरमु-उगघट्ट' किरोडुगिघट्टपायारविदे' (लहुअ ४, वे ६, ८०) ।

उगघट्ट वि [ उद्घट्ट ] घोषित, उद्घोषित (सुर १०, १८, सण), 'अमरवहुगघुडुजयजारव' (महा) ।

उगघट्ट वि [ दे ] उद्योन्वित, लुप्त, दूरीकृत, विनाशित (दे १, ६६), 'उरघालिरवेणोमुह-थणलंगुगघुट्टमहिरमा जराअमुमा' (से ११, १०२) ।

उगघुस सक [ मृज् ] साफ करना, मार्जन करना । उगघुमइ (हे ४, १०५) ।

उगघुस सक [ उद् + घुप ] देखो उगघोस । सक उगघुसिअ (नाट) ।

उगघुसिअ वि [ मृष्ट ] मार्जित, साफ किया हुआ (कुमा) ।

उगघोस सक [ उद् + घोपय ] घोषणा करना, डिहोरा पिटवाना, जाहिर करना । उगघोमेह (विपा १, १) । कवक उगघोसेमाण (विपा १, १, राया १, ५) । कवक उगघोसिज्जमाण (विपा १, २) ।

उगघोस पुं [ उद्घोप ] नीचे देखो (स्वप्न २१) ।

उगघोसणा स्त्री [ उद्घोपणा ] डुग्गी पिटवाना, डिहोरा पिटवा कर जाहिर करना (विपा १, १) ।

उगघोसिय वि [ मार्जित ] साफ किया हुआ, 'उगघोसियमुनिम्मलं व आयसमडलतल' (पणह २, ५) ।

उगघोसिय वि [ उद्घोषित ] जाहिर किया हुआ, घोषित (भवि) ।

उघूण वि [ दे ] पूर्ण, भरपूर (पड) ।

उच्चिय वि [ उचित ] योग्य, लायक, अनुकूल (कुमा; महा) । °णु वि [ °ज् ] विवेकी (उप ७६८ टी) ।

उच्च न [ दे ] नामित्तल (दे १, ८६) ।

उच्च वि [ उच्च, °क, उच्चैस् ] १ ऊँचा उच्चअ (कुमा) । २ उत्तम, उत्कृष्ट (हे २, १९४, सूअ १, १०) । °च्छद वि [ °च्छन्दस् ] स्वैर, स्वेच्छाचारी (पणह १, २) । °णागरी देखो °नागरी (कप्प) ।

°त्त न [ त्व ] १ ऊँचाई (सम १२, जी २८) । २ उत्तमता (ठा ८, १) । °त्तभयग, °त्तभयय पु [ °त्वभृतक ] जिसमे समय और वेतन का इकरार कर यथासमय नियत काम लिया जाय वह नीकर (राज; ठा ४, १) । °त्तरिया स्त्री [ °त्तरिका ] लिपि-विशेष (सम ३५) । °त्यवणय न [ °स्थापनक ] लम्बगोलाकार वस्तु-विशेष, 'घएणस्स ए अणगारस्स गीवाए अयमेयाखवे तवख्वलावन्ने होत्वा, से जहानामए करगगीवा इवा कुडिया-गीवा इवा उच्चत्यवणए इवा' (अनु) । °वचिआ

स्त्री [ °वचिका ] ऊँचा-नीचा करना, जैसे-तैसे रखना ।

'कह तपि तुइ एण अण जह सा आसदिआण बहुआणं ।

काअए उच्चवचिअं तुह दसणलेहला पडिआ' (गा ६६७) ।

°वाय पु [ °वाद ] प्रशासा, श्लाघा (उप ७२८ टी) । देखो उच्चा ।

उच्चइअ वि [ उच्चयित ] एकत्रीकृत, इकट्ठा किया हुआ (काल) ।

उच्चडिय वि [ दे ] ऊँचा चढाया हुआ (हम्मोर २८) ।

उच्चतय पु [ उच्चन्तग ] दन्त-रोग, दाँत में होनेवाला रोग-विशेष (राज) ।

उच्चपिअ वि [ दे ] १ दीर्घ, लम्बा, आयत (दे १, ११६) । २ आक्रान्त, दवाया हुआ, रोदा हुआ; 'सीस उच्चपिअ' (तदु) ।

उच्चडिअ वि [ दे ] उल्लिखित, ऊँचा फेंका हुआ (दे १, १०६) ।

उच्चत्त वि [ उच्च्यक्त ] पतित, त्यक्त (पाअ) ।

उच्चत्तवरत्त न [ दे ] १ दोनो तरफ का स्थूल भाग । २ अनियमित भ्रमण, अव्यवस्थित विवर्तन (दे १, १३६) । ३ दोनो तरफ से ऊँचा-नीचा करना (पाअ) ।

उच्चत्य वि [ दे ] हठ, मजबूत (दे १, ६७) उच्चदिअ वि [ दे ] मुषित, चुराया हुआ (पड) ।

उच्चप्प वि [ दे ] आरूढ, ऊपर बैठा हुआ (दे १, १००) ।

उच्चय सक [ उत् + त्यज् ] त्याग देना, छोड देना । कृ उच्चयणिज्ज (पद्म ६६, २८) ।

उच्चय पु [ उच्चय ] १ समूह, राशि, 'रयणो-च्चय विसाल' (सुपा ३४, कप्प) । २ ऊँचा ढेर करना (भग ८, ६) । ३ नीची, स्त्री के फटी-बख की नाडी (पाअ) । °वध पु [ °वन्ध ] बन्ध-विशेष, ऊपर ऊपर रख कर चीजो को बाँधना (भग ८, ६) ।

उच्चय पु [ अत्रचय ] इकट्ठा करना, एकत्रीकरण (दे २, ५६) ।

उच्चार सक [उन् + चर्] १ पार जाना, उत्तीर्ण होना । २ कहना, बोलना । ३ श्रक ममयं होना पहुँच नकना । ४ बाहर निकलना । उच्चार (सूक्त ४६), 'मूलदेवेण य निहृवियाडं पासाडं जाव दिदुं निमियानि-हृत्वेहि वेदियमताणयं मगूषेहि । चितियं च, साहमेणसि उच्चरामि, कायव्वं च मए वडरनिज्जायण, निराउहो संपय, ता न पोरिमन्वावसरोत्ति चितिय नणियं' (महा) । चक्रु 'भरिउच्चरतपरिययिअसंभरणपिसुणो वराईए । परिव्राहो विअ दुक्कम्मस वहइ राअणट्टिआं वाहो' (गा ३७७) ।

उच्चारण न [उच्चारण] कथन, उच्चारण, 'मिद्ध-ममक्क सोहि वय-उच्चरणाइ काण्य' (सुपा ३१७) ।

उच्चरिय वि [उच्चरित] १ उत्तीर्ण, पार-प्राप्त, 'तीए हणियसममुच्चरियाए उच्चिअण भय, जीवियदायनोत्ति मुणिएण तुम साह्लिआनं पयोइयो' (महा) । २ उच्चरित, कथित, उक्त (विंसे १०८३) ।

उच्चलण न [उच्चलन] उन्मर्दन, उल्कीडन (पाश) ।

उच्चलिय वि [उच्चलित] चलित, गत (भवि) ।

उच्चल वि [दे] १ अघ्यासित, आरूढ । २ विदारित, टिअ (पट्) ।

उच्चल सक [उन् + चल] १ चलना, जाना । २ नमीप में घाना ।

उच्चलिय वि [उच्चलित] १ गत, गया हुआ । २ नमीप में घाया हुआ, 'जिएभवणदुवारद्वियउच्चलिय-पुल्लमालिओहस्स । पुष्काइ गेरहंती, अंतो विहिणा पविट्ठो ह' (मुर ३, ७४) ।

उच्चा अ [उच्चैस्] १ ऊँचा, 'तो तेण दुदु-हरिया उच्चा हरिअण लोय-पक्कव्व । उव-योओ सो रएण' (महा) । २ उत्तम, श्रेष्ठ (ठा २, १) । 'गोत्त, 'गोय न [गोत्र] १ उत्तम गोत्र, श्रेष्ठ-वंश । २ कर्म विशेष, जिसके प्रभाव से जीव उत्तम माने-जाने कुल में उत्पन्न होता है (ठा २, ४, आचा) । 'वय

न [त्रव] १ महाव्रत (उत्त १) । २ वि. महाव्रतवारी (उत्त १५) ।

उच्चाअ वि [दे] १ श्रान्त, थका हुआ (श्रोष ५१८) । २ पु श्रानिगत, परिरम्भ (सुपा ३३२) ।

उच्चाइय वि [दे उच्चाजित] उच्चापित, उठाया हुआ, 'उच्चाइया नगरा' (म २०६) ।

उच्चाग पुं [उच्चाग] हिमाचल पर्वत । 'य वि [ल] हिमाचल में उत्पन्न, 'उच्चागयाण-लट्टसठिय' (कप्प) ।

उच्चाड वि [दे] निपुल, विद्यान (दे १, ६५) ।

उच्चाड सक [दे] १ रोकना, निवारना । २ श्रक अफसास करना, दिलगीर होना (हे २, १६३ टि) ।

उच्चाडण न [उच्चाटन] १ एक स्थान से दूसरे स्थान में उठा ले आना, उच्च-स्थान में भ्रष्ट करना । २ मत्थ-विशेष, जिसके प्रभाव में वस्तु अपने स्थान से उदायी जा सकती है, 'उच्चाडणयमणमोहणाइ सव्वपि मह करणय थ' (सुपा ५६६) ।

उच्चाडणी स्त्री [उच्चाटनी] विद्या-विशेष जिसके द्वारा वस्तु अपने स्थान से उदायी जा सकती है (मुर १३, ८१) ।

उच्चाडिर वि [दे] १ रोकनेवाला, निवारण करनेवाला । २ अफमोस करनेवाला, दिलगीर, 'कि उल्लवेंतीए, उच्च वूरतीए कि नु मोआए । उच्चाडिरीए वेव्वेत्ति, तीए भणियअ न विम्हरिमो' (हे २, १६३) ।

उच्चार सक [उत् + चारय] १ बोलना, उच्चारण करना । २ मनोस्वर्ग करना, पाखाना जाना । उच्चारिइ (उवा) । वक्र उच्चारयन (स १०७) । उच्चारैमाग (कप्प, णाया १, १) । क उच्चारैयव्व (उवा) ।

उच्चार पृ [उच्चार] १ उच्चारण । २ विष्ठा, मलोत्सर्ग (सम १०, उवा, सुपा ६११) ।

उच्चार वि [दे] विमल, स्वच्छ (दे १, ६७) । उच्चारण न [उच्चारण] कथन, 'इसि हम्म-पक्कल्लुच्चारणदाए' (श्रीप) ।

उच्चारिअ वि [दे] गृहीत, उपात (दे १, ११४) ।

उच्चारिअ वि [उच्चारित] १ कथित, उक्त । २ पाखाना गया हुआ (राज) ।

उच्चाल सक [उन् + चालय] १ ऊँचा फेंकना । २ दूर करना । संट्. 'उच्चालइय निहाणनु अइवा आसणाओ सनइनु' (आचा) ।

उच्चालइय वि [उच्चालयितृ] दूर करनेवाला त्यागनेवाला, 'ज जाणेजा उच्चालइय तं जाणेजा दुरानइय' (आचा) ।

उच्चालिय वि [उच्चालित] उठाया हुआ, ऊँचा किया हुआ, उच्चापित, 'उच्चालियम्मि पाए उरियाअमियम्म मंकरुआए' (श्रोष ७६८, दसनि ४५) ।

उच्चाव सक [उच्चय] ऊँचा करना, उठाना । सक उच्चावइत्ता: 'दोवि पाए उच्चावइत्ता सव्वया समत समनिनोएल' (परण १७) ।

उच्चावय वि [उच्चावच] १ ऊँचा और नीचा (राणा, १, १, परण ३८) । २ उत्तम और अधम (भग १५) । ३ अनुकूल और प्रतिकूल (भग १, ६) । ४ अस्मत्प्रम, अस्व-वस्मिन् (राणा १, १६) । ५ विविध, नाना-विध, 'उच्चावयाहि नेज्जाहि उवन्ती निक्खू यामव' (उत्त ८) । ६ उच्छ्रुत, विशेष उत्तम, 'एण ए नम्म आणदम्म समणोवाउगन्त उच्चावएहि सी उव्वयणुवेरमणपक्कताणपोस-होववासेहि अपण मावेमाणम्म' (उवा, श्रीप) ।

उच्चवाविय वि [उच्चित] ऊँचा किया हुआ (वज्जा १३२) ।

उच्चिदु सक [उन् + स्था] छटा होना । उच्चिदु (कान) ।

उच्चिडिम वि [दे] मर्यादा-रहित, निर्लज्ज, 'उच्चिडिम मुग्गज्जाव' (पाश) ।

उच्चिण सक [उन् + चि] फूल वगैरह को तोट कर एकत्रित करना, झट्टा करना । उच्चिणइ (हे ४, २४१) । वक्र उच्चिणत (भवि) । उच्चिणग न [उच्चयन] भवचयन, एकत्रीकरण (सुपा ४६६) ।

उच्चिणिय वि [उच्चित] इकट्ठा किया हुआ, भवचित (पाश) ।

उच्चिणिर वि [उच्चैटृ] फूल वगैरह को चुनने-वाला (कुमा) ।

उच्चिय देखो उच्चिय, 'तस्स सुभ्रोच्चियपन्न-  
त्तणेण संतोसमणुपत्ता' (उप १६९ टी)।

उच्चियलय न [दे] कलुपित जल, मैला पानी  
(पात्र)।

उच्चुच वि [दे] दृप्त, गर्विष्ठ, अभिमानी (दे  
१, ६६)।

उच्चुग वि [दे] अनवस्थित (पङ्)।

उच्चुड अक [उत् + चुड्] अपसरण  
करना, हटना। वक्क उच्चुडत (गउड ७३३)।

उच्चुप्प मक [चट्] चठना, आरूढ होना  
ऊपर बैठना। उच्चुप्पइ (हे ४, २५६)।

उच्चुप्पिअ वि [दे चटित] आरूढ, ऊपर  
चढा हुआ (दे १, १००)।

उच्चुरण [दे] उच्छिष्ट, जूठा (पङ्)।

उच्चुलउलिअ न [दे] कुतूहल से शीघ्र शीघ्र  
जाना (दे १, १२१)।

उच्चुल वि [दे] १ उद्विग्न, खिन्न। २ अवि-  
रूढ, आरूढ। ३ भीत, डरा हुआ (दे १,  
१२७)।

उच्चूड पु [उच्चूड] निशान का नीचे लट-  
कता हुआ शृगारित वस्त्राश (उप ४४६)।

उच्चूर वि [दे] नानाविध, बहुविध (राज)।

उच्चूल पु [अवचूल] १ निशान का नीचे  
लटकता हुआ शृङ्गारित वस्त्राश (उप ४४६  
टी)। २ श्रौवा-सिर—पैर ऊपर और सिर

नीचे कर—खडा किया हुआ (विपा १, ६)।

उच्चे देखो उच्चिण। उच्चेइ (हे ४, २४१)।  
हेक्क उच्चेउं (गा १५६)।

उच्चेय वि [उच्चेतस्] चिन्तातुर मनवाला  
(पात्र)।

उच्चेहर न [दे] १ ऊसर भूमि। २ जघन-  
स्थानीय केश (दे १, १३६)।

उच्चेव वि [दे] प्रकट, व्यक्त (दे १, ६७)।

उच्चोड पु [दे] शोषण, 'चदणुच्चोडकारी चडो  
देहस्स दाहो' (कप्प, प्राप)।

उच्चोदय पु [उच्चोदय] चक्रवर्ती का एक देव-  
कृत प्रासाद (उत्त १३, १३)।

उच्चोल पुं [दे] १ खेद, उद्वेग। २ नीवी, क्री  
के कटी-वस्त्र की नाडी (दे १, १३१)।

उच्छ पु [उक्षन्] वैल, वृषभ (हे २, १७)।

उच्छ पुं [दे] १ घात का आवरण (दे १,

८५)। २ वि न्यून, हीन, 'उच्छत वा न्यून-  
त्वम्' (पगह २, १)।

उच्छअ पुं [उत्सव] क्षण, उत्सव (हे २,  
२२)।

उच्छअ वि [पृच्छरु] प्रश्न-कर्ता (गा ६०)।

उच्छइअ वि [उच्छदित] आच्छादित,  
'पालवउच्छइयवच्छयलो' (काल)।

उच्छखल वि [उच्छङ्खल] १ शृङ्खला-रहित,  
भ्रवरोध-वर्जित, वन्वन-शून्य। २ उद्वत, निर-  
कुश (गउड)।

उच्छखलिय वि [उच्छङ्खलित] भ्रवरोध-  
रहित किया हुआ, खुला किया हुआ, 'उच्छं-  
खलियवराणां सोहगं किपि पवराणां'  
(गउड)।

उच्छग पुं [उत्सङ्ग] मध्य भाग, 'मउडुच्छग-  
परिगहमियंजकोणहावभासिणो पमुवइणो'  
(गउड, से १०, २)। २ क्रोड, गोद, कोरा  
(पात्र), 'उच्छगे रिणविसेत्ता' (भावम)। ३  
पृष्ठ देश (श्रौप)।

उच्छगिअ वि [उत्सङ्गित] कोरा, कोली या  
गोद में लिया हुआ (उप ६४८ टी)।

उच्छगिअ वि [दे] आगे किया हुआ, आगे  
रखा हुआ (दे १, १०७)।

उच्छघ देखो उत्थघ (हे ५, ३६ टी)।

उच्छट पु [दे] ऋषप से की हुई चोरी (दे १,  
१०१, पात्र)।

उच्छट्ट पु [दे] चोर, डाकू (दे १, १०१)।

उच्छडिअ वि [दे] चुराई हुई चीज, चोरी  
का माल (दे १, ११२)।

उच्छण न [प्रच्छन] प्रश्न, पूछना (गा  
५००)।

उच्छण देखो उच्छन्न (हे १, ११४)।

उच्छत न [अपच्छत्र] १ अपने दोप को  
ढकने का व्यर्थ प्रयत्न, गुजराती में 'ढाकपि-  
छोडो'। २ मृपावाद, झूठ वचन (पगह  
१, २)।

उच्छत्र वि [उत्सन्न] छिन्न, खण्डित, नष्ट  
(कुमा, सुपा ३८४)।

उच्छप्प सक [उत् + सर्पय्] उन्नत करना,  
प्रभावित करना। उच्छप्पइ (सुपा ३५२)।  
वक्क उच्छप्पत (सुपा २६६)।

उच्छप्पण न [उत्सर्पण] उन्नति, अभ्युदय  
(सुपा २७१)।

उच्छप्पणा स्त्री [उत्सर्पणा] ऊपर देखो,  
'जिएणपवयणम्मि उच्छप्पणाउ कारेइ विवि-  
हाम्रो' (सुपा २०६, ६४६)।

उच्छल अक [उत् + शल्] १ उछलना,  
ऊँचा जाना। २ कूदना। ३ पसरना, फैलना।  
वक्क उच्छलत (कप्प, गउड)।

उच्छलण न [उच्छलन] उछलना (दे १,  
११८, ६, ११५)।

उच्छलिअ वि [उच्छलित] उछला हुआ,  
ऊँचा गया हुआ (गा ११७, ६२४, गउड)।

२ प्रसृत, फैला हुआ; 'ता ताण वरगवो।  
उच्छलियो छलिव पिव गवं गोसीसचंदरण-  
णस्स' (सुपा ३८५)।

उच्छलिर वि [उच्छलित्] उछलनेवाला  
(वर्माव १४, कुप्र ३७३)।

उच्छल्ल देखो उच्छल। उच्छल्लइ (पि ३२७),  
'उच्छल्लति समुदा' (हे ४, ३२६)।

उच्छल्ल वि [उच्छल] उछलनेवाला (भवि)।

उच्छल्लणा स्त्री [दे] अपवर्तना, अपप्रेरणा;  
'कप्पडप्पहारनिदयमारनिसवयवरफस्सवयणत-  
जाणगलच्छल्लुच्छल्लणाहि विमणा चारगवसहि  
पवेसिया' (पगह १, ३)।

उच्छल्लिअ देखो उच्छल्लिअ (भवि)।

उच्छल्लिअ वि [दे] जिसकी छाल काटी गई  
हो वह, 'तरुणो उच्छल्लिआ य दंतीहि' (दे  
१, १११)।

उच्छल्ल देखो उच्छल (कुमा)। २ उरवेक  
(भवि)।

उच्छल्लिअ न [दे] शय्या, बिछौना (दे १,  
१०३)।

उच्छल्ल सक [उत् + सह] उद्यम करना।  
वक्क उच्छल्लइ (दस ६, ३, ६)।

उच्छल्ल अक [उत् + सह] उत्साहित  
होना। वक्क उच्छल्लइत (भवि)।

उच्छल्लिय वि [उत्सहित] उत्साह-युक्त  
(सण)।

उच्छाडअ वि [अवच्छादित] आच्छादित,  
ढका हुआ (पउम ६१, ४२, सुर ३, ७१)।

उच्छाडिअ (अप) वि [अवच्छादित] ढका  
हुआ (भवि)।

उच्छाण देखो उच्छ = उक्षन् (प्रामा)।

उच्छ्राय पु [उच्छ्राय] उल्लेख, ऊनाई (ठा  
७)।

उच्छ्राय सक [अव + छ्राय्] आच्छादन  
करना, टटना। नक उच्छ्राडऊण (वेद्य  
४८५)।  
उच्छ्रायण वि [अवच्छ्राडन] आच्छादन,  
टकनेवाला (म ३२३)।  
उच्छ्रायण वि [उच्छ्राडन] नाशक (स  
३२३, ५६३)।  
उच्छ्रायणया } ली [उच्छ्राडना] १ उच्छेद,  
उच्छ्रायणा } विनाश (भग १५)। २ व्यव-  
च्छेद, व्यावृत्ति (राज)।  
उच्छ्राय देखो उच्छ्राय = आ + क्रम (हे ४,  
१६० टी)।  
उच्छ्राय सक [उन् + शाल्य्] उच्छ्रायना,  
ऊँचा फेंकना। वक्र, उच्छ्रायलिन (कुम्मा ४)।  
उच्छ्रायण न [उच्छ्रायलन] उच्छ्रायना, उच्छ्रे-  
यण (कुम्मा ५)।  
उच्छ्रायलिन वि [उच्छ्रायलिन] फेंका हुआ,  
उच्छ्राय (सुपा ६७)।  
उच्छ्राय देखो ऊसास (मै ६८)।  
उच्छ्राय सक [उन् + साहय्] उच्छ्राय  
दिलाना, उत्तेजित करना। उच्छ्रायड (सुपा  
३५२)।  
उच्छ्राय पु [उत्साह] १ उत्साह (ठा २, १)।  
२ हठ उग्रम, स्थिर प्रयत्न (सुज २०)। ३  
उत्कठा, उत्सुकता (वद २०)। ४ पराक्रम,  
बल। ५ सामर्थ्य, शक्ति (आनू १, हे १,  
११४, २, ४८, पउम २०, ११८)।  
उच्छ्राय पु [दे] सूत का डोरा (दे १, ६२)।  
उच्छ्रायण न [उत्साहन] उत्तेजन, प्रोत्साहन  
(जप ५६७ टी)।  
उच्छ्रायि वि [उत्साहित] प्रोत्साहित,  
उत्तेजित (पिड)।  
उच्छ्राय सक [उन् + छिद] उच्छ्रायन करना,  
उच्छ्रायना। सक उच्छ्रायि (सून ४४)।  
उच्छ्रायण न [दे] उधार लेना, करजा लेना,  
सूद पर लेना (पिड ३१७)।  
उच्छ्रायण वि [अवच्छ्रायण] चोरों को  
खान-मान वगैरह की सहायता देनेवाला (परह  
१, ३)।  
उच्छ्रायण न [उच्छ्रेयण] १ ऊपर फेंकना।  
२ बाहर निकालना (परह १, १)।

उच्छ्राय वि [उच्छ्राय] ठूठा, उच्छ्राय (सुपा  
११७, ३७५, प्रामू १५८)।  
उच्छ्राय वि [उच्छ्राय] अग्रिष्ट, अग्रम्य (दम  
३, १ टी)।  
उच्छ्रायण वि [उच्छ्रायण] उच्छ्राय, उच्छ्रायित  
(ठा ५)।  
उच्छ्रायण वि [दे] १ उच्छ्राय फेंका हुआ।  
२ विज्ञप्त, पागल (दे १, १२४)।  
उच्छ्रायण वि [उच्छ्रायण] फेंका हुआ (ले ५,  
६१, पाय)।  
उच्छ्रायण देखो उच्छ्राय (मै २, १३, गउड)।  
उच्छ्रायण वि [उच्छ्रायण] मोचा हुआ, निक्त  
(दे १, १२३)।  
उच्छ्रायण देखो उच्छ्रायण (कप)।  
उच्छ्रायण देखो उच्छ्रायण।  
उच्छ्रायण वि [उच्छ्रायण] उग्रत, ऊँचा (राज)।  
उच्छ्रायण वि [दे] उच्छ्राय, ठूठा (पड)।  
उच्छ्रायण न [दे] १ छिद्र, विवर (दे १,  
६५)। २ वि अवजीरा (पड)।  
उच्छ्रायण देखो उच्छ्रायण (पात्र, गा ०४१, पि १८७,  
श्रीव ७७१, दे १, ११७)। ३ जत न [यत्र]  
ईश परने का माचा (दे ६, ५१)।  
उच्छ्रायण पु [दे] पवन, वायु (दे १, ८५)।  
उच्छ्रायण वि [उत्सुक] उच्छ्रायण (हे २,  
२०)।  
उच्छ्रायण न [दे] उच्छ्राय-उच्छ्राय की हुई चोरी (दे  
१, ६५)।  
उच्छ्रायण न [दे] ईश का खेत (दे १,  
११७)।  
उच्छ्रायण वि [दे] मद्य, टका हुआ (दे १,  
११५)।  
उच्छ्रायण वि [दे] १ वाण वगैरह से  
आहत। २ अपहत, द्योना हुआ (दे १,  
१३५)।  
उच्छ्रायण देखो उच्छ्रायण (नुर ८, ६१)। १ भूय  
वि [भूय] जो उत्कण्ठित हुआ हो (नुर  
२, २१४)।  
उच्छ्रायण वि [दे] दस, अग्रिमानी (दे १,  
६६)।  
उच्छ्रायण वि [उच्छ्रायण] १ अग्रिष्ट, ताहा  
हुआ, 'उच्छ्रायण महिष च निर्दलित' (पात्र)।  
२ आग्रान्त,

'दृशावि अग्रुच्छ्रायणा,  
चोनत्य मारुण वि अग्रानिदा।  
तिग्रमेहिवि पछिरिआ,  
पवगमेह मलिआ सुवेनुच्छ्राणा'  
(सि १०, २)।  
उच्छ्रायण वि [दे] १ विज्ञप्त। २ पतित  
(श्रीम २२० मा)।  
उच्छ्रायण सक [अप + क्षिप्] आग्रोश  
करना, गाली देना। उच्छ्रायण (भग १५)।  
उच्छ्रायण न [उच्छ्रेयण] ऊँचा फेंकना (पव  
७३ टी)।  
उच्छ्रायण वि [दे] अग्रिष्ट, म्यायी (दे १,  
६०)।  
उच्छ्रायण न [दे] १ ईश का खेत। २ ईश,  
ऊँचा (दे १, ११७)।  
उच्छ्रायण पु [दे] १ अनुवाद। २ वेद, उच्छ्रे  
(दे १, १३२)।  
उच्छ्रायण वि [दे] आरुह, ऊपर बैठा हुआ  
(पड)।  
उच्छ्रायण वि [उच्छ्रायण] १ त्यक्त, उच्छ्राय  
(राया १, १ उव)। २ मुपित, चुराया  
हुआ (राज)। ३ निरकामित, बाहर निकालना  
हुआ (श्रीप)।  
उच्छ्रायण वि [उच्छ्रायण] ऊपर देखो, 'उच्छ्राय-  
मरीरमरा अन्नो जीवो मरीरमन्न ति' (उव  
पि ६६)।  
उच्छ्रायण देखो उच्छ्रायण = नुष्ट (हे ४, ११६ टि)।  
उच्छ्रायण देखो उच्छ्रायण (उव)।  
उच्छ्रेयण पु [उच्छ्रेयण] १ नाश, उच्छ्रायण  
'एगनुच्छ्रेयमि वि नुष्टकवविअपरामजुन'  
(सम्म १८)। २ व्यवच्छेद, व्यावृत्ति, 'उच्छ्रेयो  
मुत्तव्याण ववच्छेजनि कुं भवति' (नीचू १)।  
उच्छ्रेयण न [उच्छ्रेयण] विनाश, उच्छ्रायण,  
'चिते एम समग्रो एवमुच्छ्रेयणे मज्ज'  
(सुपा ३३५)।  
उच्छ्रेयण सक [उन् + श्रि] १ ऊँचा होना,  
उच्छ्रायण होना। २ अग्रिष्ट होना, अग्रिष्ट  
होना। वक्र उच्छ्रेयण (पात्र १६४)।  
उच्छ्रेयण पु [उच्छ्रेयण] १ ऊँचा करना, उच्छ्रायण।  
२ फेंकना (वव २, ८)।  
उच्छ्रेयण पु [उच्छ्रेयण] प्रक्षेप (वव ४)।

उच्छेद्यण न [उत्क्षेपण] ऊपर देखो (मे ६, २७)।

उच्छेद्यण न [दे] घृत, नी (दे १, ११६)।

उच्छेद्य पु [उत्सेद्य] ऊँचाई (दे १, १३०)।

उच्छेद्यवि वि [उच्छेद्यवि] छुड़ाया हुआ, मुक्त किया हुआ, 'उच्छेद्यवि-ववो सो रत्ना भणिसो य भद् । उवविमसु' (सुर १, १०५), 'पातद्विगुरिरेहि तक्खणमुच्छेद्यिया य से वंवा' (सुर २, ३६)।

उच्छेद्यो भ वि [उच्छेद्यो भ] १ गोष्ठा-रहित । २ न पिशुनता, चुगली (राज)।

उच्छेद्योल मक [उत् + मूल्य] उन्मूलन करना, उखाड़ना । वक्क उच्छेद्योल्ल (राज)।

उच्छेद्योल सक [उन् + क्षाल्य] प्रक्षालन करना, धोना । वक्क उच्छेद्योल्ल (निचू १७)। प्रयो, वक्क उच्छेद्योलावंत (निचू १६)।

उच्छेद्योलण न [उत्क्षालण] प्रभूत जल से प्रक्षालन, 'उच्छेद्योलण च कक्क च त निज्ज परियाणिया' (सूत्र १, ६, श्लोप)।

उच्छेद्योलणा स्त्री [उत्क्षालना] प्रक्षालन (वक्क ४)।

उच्छेद्योला स्त्री [दे] प्रभूत जल, 'नहदंतकेयरो मे जमेइ उच्छेद्योलावोयणो अज्जो' (उव)।

उच्छेद्योलित्तु वि [उत्क्षालयित्तु] हूनेवाला, निमग्न करनेवाला (सूत्र २, २, १८)।

उज्जु देखो उज्जु (आचा, कप्प)।

उज्जुअ देखो उज्जुअ (नाट)।

उज्ज देखो ओय = ओजम् (कप्प)।

उज्ज न [ऊर्ज] १ तेज, प्रताप । २ बल (कप्प)।

उज्जअणी } स्त्री [उज्जयनी, °यिनि]  
उज्जइणी } नगरी-विशेष, मालव देश की प्राचीन राजधानी, आजकल भी यह 'उज्जैन' नाम से प्रसिद्ध है (चार ३९, पि ३८६)।

उज्जगल न [दे] बलात्कार, जबरदस्ती । २ वि दीर्घ, लम्बा (दे १, १३५)।

उज्जगरय पु [उज्जागरक] १ जागरण, निद्रा का अभाव

'जत्य न उज्जगरओ,

जत्य न ईत्ता विसुरण माण ।

सम्भावचाहुय जत्य,

नत्यि नेहो त्तिहि नत्यि'

(वज्जा ६८)।

उज्जागर न [उज्जागर] जागरण, निद्रा का अभाव (दे १, ११७, वज्जा ७४)।

उज्जग्गुज्ज वि [दे] स्वच्छ, निर्मल (दे १ ११३)।

उज्जह वि [दे] उजाह, वमति-रहित (दे १, ६६)।

'उत्तिकरणरवमरोणयत-

लज्जजरभूविमट्टविलविसमा

धोउज्जउक्कविहवा इमाओ

ता उन्दरयलीओ' (गडड)।

उज्जणिअ वि [दे] वक्र, टेढ़ा (दे १, १११)।

उज्जम अक [उद् + यम्] उद्यम करना, प्रयत्न करना । उज्जमह (धम्म १४)।

उज्जमह (उव) । वक्क उज्जमंत, उज्जममाण (परह १, ३), 'ए करेइ दुक्खमोक्क उज्जममाणवि संजमतवेमु' (सूत्र १, १३)।

क उज्जमिअव्व उज्जमेयव्व (सुर १४, ८३, सुपा २८७, २२४)। हेक्क उज्जमिउं (उव)।

उज्जम पु [उद्यम] उद्योग, प्रयत्न (उव, जी ५०, प्रामू ११५)।

उज्जमण (अप) न [उद्यापण] उद्यापन, व्रत-समाप्ति-कार्य (भवि)।

उज्जमि वि [उद्यमिन्] उद्योगी (कुप्र ८१६)।

उज्जमिय (अप) वि [उद्यापित] समापित (व्रत) (भवि)।

उज्जमह अक [उत् + जम्भ] जोर में जैमाई लेना । उज्जमहड (प्राक्क ६४)।

उज्जय हि [उद्यत] उद्योगी, उद्युक्त, प्रयत्नशील (पाप्प, काप्र १६६, गा ४४८)।

'भरण न [°भरण] मरण-विशेष (आचा)।

उज्जयत पु [उज्जयन्त] गिरनार पर्वत, इय उज्जयवक्कप, अविषय जो करेइ जिणभत्तो (ती, विवे १८), 'ता उज्जयतसत्तजणमु तित्थेमु दोमुवि जिणदे' (मुणि १०६५)।

उज्जर वि [दे] १ मध्य-नात, भीतर का । २ पु निर्जरण, क्षय (तट्ट ८१)।

उज्जल अक [उद् + ज्वल्] १ जलना । २ प्रकाशित होना, चमकना । उज्जलति (विक्र ११४)। वक्क, उज्जलत्त (एदि)।

उज्जल वि [उज्जल] १ निर्मल, स्वच्छ (भग ७, ८, कुमा)। २ दीपन, चमकीला (कप्प, कुमा)।

उज्जल वि [दे] देखो उज्जल्ल (हे २, १७४ टि)।

उज्जल ग वि [उज्जलण] चमकीला, देदीप्यमान, 'जालुज्जलणगअवरव कत्यइ पयत अइवेगचचल सिहि' (कप्प)।

उज्जलिअ पुं [उज्जलिन] तीसरी नरक-भूमि का सातवाँ नरकन्द्रक—नरक-स्थान विशेष (देवेन्द्र ८)।

उज्जलिअ वि [उज्जलित] १ उड़ीस, प्रकाशित (पउम ११८, ८८, औप)। २ ऊँची ज्वालान्नो से युक्त (जीव ३)। ३ न उड़ीपन (राज)।

उज्जल्ल वि [दे] स्वेद-रहित, पसीनावाला, मलिन; 'भुंडा कइविणट्ठगा उज्जल्ला असमाहिया' (सूत्र १, ३)। २ बलवान, बलिष्ठ (हे २, १७४)।

उज्जल्ल न [औज्जल्य] उज्ज्वलना (गा ६२६)।

उज्जल्ला स्त्री [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे १, ६७)।

उज्जव अक [उद् + यत्] प्रयत्न करना । वक्क 'मुट्टुवि उज्जवमाण पचेव करंति रित्तय समण' (उव)।

उज्जवण देखो उज्जावण (भवि)।

उज्जह सक [उद् + हा] प्रेरणा करना । सक उज्जहित्ता (उत्त २७, ७)।

उज्जाअर } पु [उज्जागर] जागरण, निद्रा  
उज्जागर } का अभाव (गा ४८२, वज्जा ७६)।

उज्जाडिअ वि [दे] उजाह किया हुआ (भवि)।

उज्जाण न [उद्यान] उद्यान, बगीचा, उपवन (अणु, कुमा)। °जत्ता स्त्री [°यात्ता] गोष्ठी, गोठ (साया १, १)। °पालअ, °वाल वि [पालक, °पाल] बगीचा का रत्नक, माली (सुपा २०८, ३०८)।

उज्जाणिअ वि [औद्यानिक] उद्यान-संबंधी, बगीचा का (भग १४, १)।

उज्जाणिअ वि [दे] निम्नीकृत, नीचा किया हुआ (दे १, ११३)।

उज्जाणिआ } स्त्री [औद्यानिका] गोष्ठी,  
उज्जाणिगा } गोठ, उज्जाण जत्य लोगो उज्जाणिमाए वच्चइ' (निचू ८, स १५१)।



उज्जाणी स्त्री [औद्यानी] गोष्ठी, गोठ  
(मुपा ४८५) ।

उज्जायण न [उद्यायन] गौत्र-विशेष (सुज्ज  
१०, १ टी) ।

उज्जाल सक [उत् + ज्वाल्य्] उज्ज्वल  
करना, विशेष निर्मल करना । संकृ उज्जा-  
लिय (श्रावक ३७६) ।

उज्जाल सक [उद् + ज्वाल्य्] १ उजाला  
करना । २ जलाना । संकृ उज्जालिय,  
उज्जालित्ता (दम ५, आचा) ।

उज्जालण न [उज्ज्वालन] जलाना (दम ५) ।  
उज्जालण न [उज्ज्वालन] उज्ज्वल करना  
(सिरि ६८०) ।

उज्जालप वि [उज्ज्वालक] आन सुलगाने-  
वाला (सूत्र १, ७, ५) ।

उज्जालिअ वि [उज्ज्वालिन] जलाया हुआ,  
सुलगाया हुआ (सुर ६, ११७) ।

उज्जावण न [उद्यापन] व्रत का समाप्ति-  
कार्य (प्राह) ।

उज्जाविय वि [दे] विकासित (मण) ।  
उज्जित देखो उज्जयत (णया १, १६),

‘उज्जितसेलनिहरे, दिक्खा  
नाए निसीहिआ जस्स ।

त वम्मचक्कवट्टि,

अरिदुत्तेमि नमसामि’ (पट्टि) ।

उज्जीरिअ वि [दे] निर्मलित, अपमानित,  
तिरस्कृत (दे १, ११२) ।

उज्जीवण न [उज्जीवन] १ पुनर्जीवन,  
जिनाना, ‘सम्पमात्रो एषो कुमरमुज्जीवणे  
जाश्रो’ (मुपा ५०४) । २ उद्दीपन (सण) ।

उज्जीविय वि [उज्जीवित] पुनर्जीवित,  
जिलाया हुआ (मुपा २७०) ।

उज्जु वि [ऋजु] मरन, निष्कपट, सीधा  
(श्रीप, आचा) । ‘कड् वि [कृत] १  
निष्कपट तवन्वी (आचा; उत) । ‘कड्  
वि [कृन्] माया-रहित आचरणवाला  
(आचा) । ‘जड्, ‘जड् वि [जड्] सरल  
किन्तु मूर्ख, तात्पर्य को नहीं समझनेवाला  
(पचा १६, उत २६) । ‘मड् स्त्री [मति]  
१ मन पर्यंत्र ज्ञान का एक भेद, सामान्य  
मनोज्ञान, सामान्य रीति से दूसरों के मनोभाव

को जानना । २ वि उक्त मनो-ज्ञानवाला  
(परह २, १, श्रीप) । ‘वालिआ स्त्री  
[वालिआ] नदी-विशेष, जिनके किनारे  
भगवान् महावीर को केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ  
था (कप्प, स ४२२) । ‘सुत्त पु [सुत्र]  
वर्तमान वस्तु को ही माननेवाला नय-विशेष  
(ठा ७) । ‘सुय पु [श्रुत] देखो पूर्वोक्त  
अर्थ, ‘पच्चुप्पभग्गाही उज्जुमुथो रायविही  
मुणेष्वो’ (अणु) । ‘हत्थ पु [हस्त]  
दाहिना हाथ (श्रीप ५११) ।

उज्जु पृ [ऋजु] सयम (सूत्र १, १३, ७) ।  
उज्जुअ वि [ऋजुक] ऊपर देखो (आचा;  
कुमा, गा १५६, ३५२) ।

उज्जुआइअ वि [ऋजुकारित] सरल किया  
हुआ (सं १३, २०) ।

उज्जुग देखो उज्जुअ (पि ५७) ।

उज्जुत्त वि [उद्युक्त] उत्तमी, प्रयत्नशील  
(सुर ४, १५, पाय) ।

उज्जुरिअ वि [दे] १ क्षीण, नष्ट । २ शुष्क,  
सूना (दे १, ११२) ।

उज्जूढ वि [उद्ब्यूढ] धारण किया हुआ  
(सवोव ५३) ।

उज्जेणग पु [उज्जयनक] थावक-विशेष,  
एक उपासक का नाम (आचू ६) ।

उज्जेणी देखो उज्जणी (महा काप्र ३३३) ।  
उज्जोअ सक [उद् + द्योतय्] प्रकाश  
करना, उद्योत करना । उज्जोएइ (महा) । वक्तु  
उज्जोयत, उज्जोइत, उज्जोयमाण, उज्जो-  
एमाण (णया १, १, मुपा ४७, सुर ८,  
८७, मुपा २४२, जीव ३) ।

उज्जोअ पु [उद्योग] प्रयत्न, उद्यम (पचम  
३, १२६, सूक्त ३६ पुष्प २८, २६) ।

उज्जोअ पु [उद्द्योत] १ प्रकाश, उजेली ।  
‘गर वि [कर] प्रकाशक; ‘लोगस्स उज्जो-  
अग्गे, वम्मतिव्यपरं जिणे’ (पट्टि, पाय, हे  
१, १७७) । २ उद्द्योत का कारण-भूत कर्म-  
विशेष (सम ६७, कम्म १) । ‘त्य न [त्थ]  
शम्भ-विशेष (पचम १२, १२८) ।

उज्जोअग वि [उद्द्योतक] प्रकाशक, ‘सव्व  
जुज्जयोनस्स’ (गदि) ।

उज्जोअण न [उद्द्योतन] १ प्रकाशन, अव-  
भासन । २ वि प्रकाश करनेवाला (उप

७२८ टी) । ३ पु. सूर्य, रवि । ४ एक प्रसिद्ध  
जैनाचार्य (शु ७, सार्ध ६२) ।

उज्जोअय वि [उद्द्योतक] १ प्रकाशक ।  
२ प्रभावक, उत्तति करनेवाला (उर ८, १२) ।

उज्जोइत देखो उज्जोअ = उद् + द्योतय् ।

उज्जोइय वि [उद्द्योतित] प्रकाशित (सम  
१५३, मुपा २०५) ।

उज्जोएमाण देखो उज्जोअ = उद् + द्योतय् ।

उज्जोमिआ स्त्री [दे] ररिम, रन्वी (दे १,  
११५) ।

उज्जोव देखो उज्जोअ = उद् + द्योतय् । वक्तु-  
उज्जोवत, उज्जोवयत, उज्जोवैत, उज्जो-  
वेमाण (पचम २१, १५, स २०७, ६३१,  
ठा ८) ।

उज्जोवण न [उद्द्योतन] प्रकाशन (न  
६३१) ।

उज्जोविय देखो उज्जोइय (कप्प, णया १,  
१, परह १, ४, पचम, १६०, स ३६) ।

उज्जु सक [उज्जु] त्याग करना, छोड़  
देना । उज्जुइ (महा) । कवक, उज्जिज्जमाण  
(उप २११ टी) । संकृ उज्जिअ, उज्जिअं,  
उज्जिऊण (अग्नि ६०, पि ५७६, राज) ।

हेक उज्जिअण (णया १, ८) । क उज्जिअ-  
यच्च (उप ५६७ टी) ।

उज्जु पुं [उज्जु, उद्ब्यू] उपाध्याय, पाठक  
(विसे ३१६८) ।

उज्जुअ } वि [उज्जुअ] त्याग करनेवाला,  
उज्जुअ } छोड़नेवाला (सूत्र १, ३, उप १७६  
टी) ।

उज्जुअण न [उज्जुअ] परित्याग (उप १७६-  
पृ ४०३, पचम १, ६०, श्रीप) ।

उज्जुअणया } स्त्री [उज्जुअ] परित्याग (उप  
उज्जुअणा } ५६३, आच ८) ।

उज्जुअणिवि अ वि [दे] विस्मृत, वेचा हुआ । २  
निम्नीकृत, नीचा किया हुआ (पड्) ।

उज्जुअणन न [दे] पलायन, भागना (दे १,  
१०३) ।

उज्जुअणवि [दे] पलायित, भागा हुआ  
(पड्) ।

उज्जुअणपु [निर्भर] पर्वत ने गिरनेवाला जल-  
प्रवाह, पहाड़ का भ्रमना (णया १, १,  
गडड, गा ६३६) । ‘वण्णी स्त्री [पर्णा]  
उदक-प्रात, जल-प्रपात (निचू ५) ।

उज्जरिअ वि [दे] देवी नजर से देखा हुआ ।  
२ विक्षिप्त । ३ क्षिप्त, फँका हुआ । ४ परि-  
त्यक्त, उज्जिक्त (दे १, १३३) ।

उज्जमल वि [दे] प्रबल, बलिष्ठ (पड्) ।

उज्जमलिअ वि [दे] १ प्रक्षिप्त, फँका हुआ ।

२ विक्षिप्त (पड्) ।

उज्जमस पु [दे] उद्यम, उद्योग, प्रयत्न (दे  
१, १५) ।

उज्जमसिअ वि [दे] उज्जृष्ट, उत्तम (पड्) ।

० उज्जमा देखो अउज्जमा (उप पृ ३७४) ।

उज्जमाय पु [उपाध्याय] विद्या-दाता गुरु,  
शिक्षक, पाठक (महा, सुर १, १८०) ।

उज्जमासि वि [उज्जमासिन्] चमकनेवाला,  
देदीप्यमान, 'कंकणुज्जमासिहत्या' (रभा) ।

उज्जिअ वि [दे] १ वचनीय, लोकापवाद ।

२ वि निन्दनीय । ३ कथनीय (दे ३, ५५) ।

उज्जिमय वि [उज्जिम्त] १ परित्यक्त, विमुक्त  
(कुमा) । २ मित्त (श्राव ४) । ३ न परित्याग  
(भ्रणु) । ० य पु [क] एक साथवाह का  
पुत्र (विपा १, २) ।

उज्जिमय वि [दे] १ शुष्क, सूखा हुआ । २  
निम्नीकृत, नीचा किया हुआ (पड्) ।

उज्जिमया स्त्री [उज्जिम्ता] एक साथवाह-  
पत्नी (राया १, ७) ।

उट्ट पुत्री [उट्ट] ऊँट, करम (विपा १, ६,  
हे २, ३४, उवा) । स्त्री उट्टी (राज) ।

उट्टार पु [अवतार] घाट, तीर्थ, जलाशय  
का तट,

'अह ते तुरउट्टारे बहुमडमपरे मुसत्यकमलवरणे ।  
लीलायति जहिच्छं समरतलाए कुमारगया'

(परम १८, ३०) ।

उट्टिगा देखो उट्टिया (धर्मसं ७८) ।

उट्टिय } वि [औष्टिक] ऊँट सम्बन्धी । ऊँट  
उट्टियय } के रोमो का बना हुआ (ठा ५, ३,  
श्रीष ७०६) । ३ पु शृत्य, नौकर (कुमा) ।  
४ घडा, घट (उवा) ।

उट्टिया स्त्री [उट्टिका] घडा, घट, कुम्भ (विपा  
१, ६, उवा) । ० समण पु [श्रमण] आजी-  
विक-मत का साधु, जो बडे घडे में बैठ कर  
तपस्या करता है (श्रीप) ।

उट्ट शक [उत् + स्था] उठना, खडा होना ।

उट्टइ (हे ४, १७, महा) । उट्टेइ (पि ३०६) ।  
वह्. उट्टत (गा ३८२, सुपा २६६), उट्टित  
(सुर ८, ४३, १३, ५३) । सह्. उट्टाय,  
उट्टित्तु, उट्टित्ता, उट्टेत्ता (राज, श्राचा, पि  
५८२) । हेह् उट्टिउ (उप पृ २५८) ।

उट्ट वि [उत्थ] उत्थित, उठा हुआ (श्रीष ७०  
उवा) । ० वडस अप [०]पवेरा] उठ-बैठ (हे ४,  
४२३) ।

उट्ट पुं [ओष्ठ] श्रोत्र, अवर (सम १२५, सुपा  
५२३) ।

उट्ट पु [उष्ट] जलचर जनु-विशेष (सूअ १,  
७, १५) ।

उट्टण देखो उट्टाण (धर्मसं १३०) ।

उट्टभ सक [अव + स्तम्] १ आलम्बन  
देना, सहारा देना । २ आक्रमण करना  
कर्म उट्टभइ (हे ४, ३६५) । सह् 'उट्ट-  
भिया एगया काय' (श्राचा १, ६, ३,  
११) ।

उट्टवण न [उत्थापन] उत्थापन, ऊँचा करना,  
उठाना (श्रीष २१४, दे १, ८२) ।

उट्टविय वि [उत्थापित] उत्पादित, उठाय  
हुआ, खडा किया हुआ, 'सा सलियां उट्टविया  
भणइ किमागमणकारण मुएहे' (सुर ६,  
१६०) ।

उट्टा देखो उट्ट = उत् + स्था (प्रामा) ।

उट्टा स्त्री [उत्था] उत्थान, उठान, 'उट्टाए  
उट्टेइ' (राया १, १, श्रीप) ।

उट्टाइ वि [उत्थाइन्] उठनेवाला (श्राचा) ।

उट्टाइअ वि [उत्थित] १ जो तैयार हुआ हो,  
प्रयुग (पउम १२, ६६) । २ उत्पन्न, उत्थित  
(म ३७६) ।

उट्टाइअ देखो उट्टाविअ (उवा) ।

उट्टाण न [उत्थान] १ उठान, ऊँचा होना  
(उव), 'भम्ममलिलेहिं घडासु अ वोच्छिज्जइ  
पसरिअं महिरउट्टाण' (से १३, ३७) । २  
उड्डव, उत्पत्ति (राया १, १४) । ३ आरम्भ,  
आरम्भ (भग १५) । ४ उड्डसन, बाहर निक-  
लना (एदि) । ० सुय न [श्रुत] शास्त्र-विशेष  
(एदि) ।

उट्टाय देखो उट्ट = उत् + स्था ।

उट्टाव सक [उत् + स्थापय्] उठाना ।  
उट्टावेइ (महा) ।

उट्टावण देखो उट्टवण (कस) ।

उट्टावण देखो उवट्टावण, 'पन्नावणविहिमुट्टा-  
वण च अन्नाविहि निरवसेस' (उव) ।

उट्टावणा देखो उवट्टावणा (भत २५) ।

उट्टाविअ वि [उत्थापित] १ उठाय हुआ,  
खडा किया हुआ (नाट) । २ उत्पातित, 'तुमए  
उट्टाविओ कली एस' (उप ६४८ टी) ।

उट्टिउ }  
उट्टित } देखो उट्ट = उत् + स्था ।  
उट्टित्ता }  
उट्टित्तु }

उट्टिय वि [उत्थित] उत्थित, खडा हुआ (सुर  
३, ६६) । २ उत्पन्न, उद्भूत (परह १,  
३), 'विहीसिया कावि उट्टिया एस' (सुपा  
५४१) । ३ उदित, उदय-प्राप्त, 'उट्टियम्मि  
सूर' (भ्रणु) । उद्यत, उद्युक्त (श्राचा) ।  
५ उड्डसित, बाहर निकला हुआ (श्रीष ६५  
भा) ।

उट्टिर वि [उत्थान्] उठनेवाला (भ्रणु) ।

उट्टिसिय वि [उट्टुपित] पुलकित, रोमा-  
ञ्चित (श्रीष, कुमा) ।

उट्टीअ (अप) देखो उट्टिय (पिंग) ।

उट्टुभ } अक [अव + णीव्] थूकना ।  
उट्टुह } उट्टुमति, उट्टुमह (पि १२०),  
उट्टुहह (भग १५) । सह् उट्टुहइत्ता  
(भग १५) ।

उठिअ (अप) देखो उट्टिय (पिंग—पत्र  
५८१) ।

० उड पुन [कुट] घट, कुम्भ,

'पडिवक्वमएणुपुजे लावरएणउडे अणएगगअकुंमे ।  
पुरिमसअहिअअवरिए कीस थएली थणे वहसि'  
(गा २६०)

० उड पु [कुट] समूह, राशि, 'सप्पी जहा  
अंडउडं भत्तार जो विहिंसइ' (सम ९१) ।

० उड देखो पुड (उवा, महा, गउड, गा ६६०,  
सुर २, १३, प्रासू ३६) ।

उडक पु [उट्टक] एक ऋषि, तापस-विशेष  
(निचू १२) ।

उडव वि [दे] लिप्त, लिपा हुआ (पड्) ।

उडज } पुं [उट्टज] ऋषि-आश्रम, परां-  
उडय } शाला, पत्तों से बना हुआ घर (अभि  
उडव } १११, प्रति ८४, अभि ३७, स  
१०), 'उडवो तावसणेह' (पात्र) ;

‘जमह दिया य राओ य, हृणामि महसप्पिस ।  
तेण मे उड्ढो वड्ढो, जाय सरणओ भय’  
(निचू १) ।

उडाहिअ वि [दे] उत्क्रान्त, फेंका हुआ  
(पड्) ।

उड्डिअ वि [दे] अन्विष्ट, खोना हुआ (पड्) ।

उड्डिउ पु [दे] उड्डि, उरद, माप, वान्य-विशेष  
(दे १, ६८) ।

उड्डु पुं [उड्डु] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३१) ।

°पुपभ पुंन [°प्रभ] उड्डु नामक विमान के  
पूर्व तरफ स्थित एक देव-विमान (देवेन्द्र  
१३८) । °मउम्क पुन [°मध्य] उड्डुविमान

के दक्षिण तरफ का एक देव विमान (देवेन्द्र  
१३८) । °यावत्त पुन [°कावर्त] उड्डुविमान  
के पश्चिम तरफ का एक देव-विमान (देवेन्द्र

१३८) । °मिड्डु पुन [°सृष्ट] उड्डुविमान के  
उत्तर तरफ का एक देव विमान (देवेन्द्र  
१३८) ।

उड्डु न [उड्डु] १ नक्षत्र (पात्र) । २ विमान-  
विशेष (सम ६६) । °प, °य पु [°प] १

चन्द्र, चन्द्रमा (श्रीप. सुर १६, २४६) । २  
जहाज, नौका (दे १, १२२) । ३ एक की

सख्या (सुर १६, २४६) । °वइ पु [°पति]  
चन्द्र (सम ३०, परह १, ४) । °वर पु

[°वर] मूर्ध (राज) ।

उड्डु देखो उउ (ठा २, ४, श्लो १२३ भा) ।

उड्डु वरिञ्जिया स्त्री [उड्डुम्बरीया] जैन मुनियो  
की एक शाखा (कप्प) ।

उड्डुहिअ न [दे] १ विवाहिता स्त्री का कोप ।

२ वि उच्छिष्ट, सूत्रा (दे १, १३७) ।

उड्डुगल } पुन [उड्डुगल] उलूखल, उड्डुखल  
उड्डुहल } (पिड ३६१, प्राकृ ७) ।

उड्डु पु [उड्डु] १ देश-विशेष, उत्कल, श्रोड,  
श्राड नामों में प्रसिद्ध देश, जिसको आजकल

उड्डोमा कहते हैं (स २८६) । २ इस देश का  
निवासी, उड्डिया, ‘मगजवण-वन्वर-गाय मुहं-  
डोह भउग—’ (परह १, १) ।

उड्डु वि [दे] मुष्ठा आदि को खोदनेवाला,  
पतक (दे १, ८५) ।

उड्डुण पु [दे] १ बैल, सा. २ वि, दीर्घ,  
सम्बा (दे १, १२३) ।

उड्डुस देखो उड्डेस (उत्त ३६, १३८) ।

उड्डुस पु [दे] खटमन, खटकीरा, उड्डिम (दे  
१, ६६) ।

उड्डुहण पु [दे] चोर, डाकू (दे १, ६१) ।

उड्डुअ पु [दे] उदगम, उदय, उड्डव (दे १,  
६१) ।

उड्डुाण न [उड्डुयन] उड्डान, उड्डना, ‘मोरोवि  
अहव धिप्पइ, हत तइजम्मि उड्डाणे’ (सुर ८,  
५२) ।

उड्डुाण पु [दे] १ प्रतिशब्द, प्रतिव्वनि । २  
कुरर, पक्षि-विशेष । ३ विष्ठा, पुरीप । ४

मनोरथ, अभिलाष । ५ वि गविष्ठ, अभिमानी  
(दे १, १२८) ।

उड्डुामर वि [उड्डुामर] उड्डट, प्रवल (कुप्र  
१४५) ।

उड्डुामर वि [उड्डुामर] १ भय, भीति । २  
श्राडम्बरवाला, टीपटापवाला (पात्र) ।

उड्डुामरिअ वि [उड्डुामरिअ] भय-भीत किया  
हुआ (कप्प) ।

उड्डुाव सक [उड्डु + डायय्] उड्डाना ।  
उड्डावइ (भवि) । वक्क उड्डावत (हे ४,  
३५२) ।

उड्डुाव वि [उड्डुायक] उड्डानेवाला (पिड ४७१) ।

उड्डुावण न [उड्डुायन] १ उड्डाना, ‘मत्तजल-  
वायमुड्डावणेण जलकनुसण किमिम’ (कुमा) ।

२ आकर्षण, ‘हियड्डावणे’ (गाया १, १४) ।

उड्डुाविअ वि [उड्डुायित] उड्डाया हुआ (गा  
११०, पिग) ।

उड्डुाविर वि [उड्डुायिउ] उड्डानेवाला (वजा  
६४) ।

उड्डुास पु [दे] सताप, परिताप (दे १, ६६) ।

उड्डुाह पुं [उडाह] १ भयङ्कर दाह, जला  
देना (उप २०८) । २ मालिन्य, निन्दा, उप-  
घात (श्लो २२१) ।

उड्डुिअ वि [औड्डु] उड्डोसा देश का निवासी  
(नाट) ।

उड्डुिअ वि [दे] उत्क्रान्त, फेंका हुआ (पड्) ।

उड्डुिअत देखो उड्डो = उड्डु + डी ।  
उड्डुिआहरण न [दे] छुरी पर रक्ते हुए फूल

को पाँव की दो उँगलियों में लेते हुए चल  
जाना; ‘छुरिअगमुक्कपुण्णं धेत्तुअ पाययुलीहि  
उप्पयण । त उड्डुिआहरण’

‘कुमुम यत्रोड्डीय, क्षुरिकाग्राह्लाघवेन सगृह्य ।

पादानुनिभिर्गच्छति, तद्विज्ञातव्यमुड्डुिआहरण’  
(दे १, १२१) ।

उड्डुिय वि [उड्डुिअ] उडा हुआ, ‘तस्स उड्डुिय-  
पत्तिखणुव्व पणे’ (धर्मवि १३६) ।

उड्डुिहिअ वि [दे] ऊपर फेंका हुआ (पात्र) ।

उड्डुिअक [उड्डु + डी] उड्डाना । उड्डुइ, उड्डुइति  
(पि ४७४) । वक्क उड्डुिअत, उड्डुइत (दे ६,  
६४, उप १०३१ टी) । संक उड्डुइण,

उड्डुइवि (पि ५८६, भवि) ।

उड्डुि स्त्री [औड्डुि] लिपि-विशेष, उत्कल देश  
की लिपि (विने ४६४ टी) ।

उड्डुिण वि [उड्डुिअ] उडा हुआ (गाया १,  
१, पात्र, सुपा ४६४) ।

उड्डुिअ पु [दे] डकार, उदगार, ‘जभाइएणं  
उड्डुिअण वायनिसणेण’ (पडि) ।

उड्डुिअय } पु [दे] देखो उड्डुिअ (विइय  
उड्डुिअ } ४३४, ४३७) ।

उड्डुिवाडिय पु [उड्डुिवाडिक] भगवान्  
महावीर के एक गण का नाम (कप्प) । देखो  
उड्डुिवाडिअ ।

उड्डुिअ देखो उड्डुिअ (दे १, १३७) ।

उड्डुिय देखो उड्डुिअ (राज) ।

उड्डु न [ऊर्ध्व] १ ऊपर, ऊँचा (श्राणु) । २  
वमन, उलटी, ‘उड्डुणिरोहो कुट्ट’ (वृह ३) ।

३ वि उत्तम, मुख्य, ‘अहत्ताए नो उड्डुत्ताए  
परिणमति’ (भग ६, ३, श्रावम) । ४ खडा,  
दरडायमान, ‘ख्राणुव्व उड्डुदेहो काउस्सगं तु

ठाइजा’ (श्राव ६) । ५ ऊपर का, उपरितन  
(उवा) । °कड्डुयग पु [°कण्डुयक] तापसों

का एक सम्प्रदाय जो नाभि के ऊपर भाग में  
हो खुजलाते हैं (भग ११, ६) । °काय पु

[°काय] शरीर का उपरितन भाग (राज) ।  
°काय पु [°काक] काक, वायस, ‘ते उड्डु-  
काएहि पखजमाणा अवरहेहि खत्ति सरणप्प-

एहि’ (सूत्र १, ५, २, ७) । °गम वि [°गम]  
ऊपर जानेवाला (सुपा ४५६) । °गामि वि

[°गामिन्] ऊपर जानेवाला (सम १५३) ।  
°चर वि [°चर] ऊपर चलनेवाला, आकाश

में उड्डनेवाला (गृत्रादि) (श्राचा) । °दिशा  
स्त्री [°दिश] ऊर्ध्व दिशा (उवा, श्राव ६) ।  
°रेणु पु [°रेणु] परिमाण-विशेष, श्राव

स्वरास्त्राणिका (इक) । °लोग, °ल्येय पु  
[°लोक] स्वर्ग, देव-लोक (ठा ५, ३, भग) ।  
°वाय पु [°वात] ऊँचा गया हुआ वायु,  
वायु-विशेष (जीव ?) ।

उद्ध ऊपर देखो; 'उद्धंजाण ग्रहोसिरे म्हाण-  
कोट्टोवगए' (भग १, १, महा. आ ३३) ।

उद्धक न [दे] मार्ग का उन्नत भू-भाग (सूत्र  
१, २) ।

उद्धल } पु [दे] उल्लाम, विकास (दे १,  
उद्धल } ६१) ।

उद्धविय वि [ऊर्ध्वित] ऊँचा किया हुआ  
(वजा १४६) ।

उद्धा स्त्री [ऊर्ध्वा] ऊर्ध्व-दिशा (ठा ६) ।

उद्धि [दे] देखो उद्धि (सुज १०, ८) ।

उद्धि देखो उद्धि (पड्) ।

उद्धि देखो इद्धि (पड्) ।

उद्धिदय देखो उद्धरिअ = उद्धृत (रभा) ।

उद्धिया स्त्री [दे] ? पात्र-विशेष (स १७३) ।

२ कम्बल वगैरह ओढने का वस्त्र (स ५८६) ।

उण देखो पुण = पुनर् (पिडं ८२) ।

उण न [अण] अण, करजा (पड्) ।

उण } देखो पुण (प्राभा; प्रासू ६१, कुमा,  
उणा } हे १, ६५) ।  
उणाइ

उणपन्न स्त्रीन [एमोनपञ्चाशत्] उनचास,  
४६ (देवेन्द्र ६६) ।

उणाइ पु [उणादि] व्याकरण का एक  
प्रकरण (परह २, २) ।

उणाइ पु [दे] प्रिय, पति, नायक; 'उणाइ-  
साहबोला प्रियावें' (सजि ४७) ।

उणा देखो पुण (गडड, पि ३४२, हे १, ६५) ।

उणन न [ऊर्ण] भेड या वकरो के रोम,  
रोर्था। देखो उन्न । कप्पाम पु [कार्पास]  
ऊन, भेड के रोम (निव्व १) । °णाम पु  
[°नाम] मकड़ी, कीट-विशेष (राज) ।

°उण देखो पुण = पूर्ण (सि ८, ६१, ६५) ।

उणअ सक [उद् + नद्] पुकारना, आह्वान  
करना । उणअइ (प्रकृ ७४) ।

उणइ स्त्री [उन्नाति] उन्नति, अभ्युदय (गा  
४६७) ।

उणइज्जमाण देखो उणो ।

उणम सक [उद् + नम्] ऊँचा होना,  
उन्नत होना । वक्क. उणमत (पि १६६) ।

संक्र उणमिय (भाचा २, १, ५) ।

उणम वि [दे] समुन्नत, ऊँचा (दे १, ८८) ।

उणय वि [उन्नत] ? उन्नत, ऊँचा (अभि  
२०६) । २ गुणवान्, गुणी (खाया १, १) ।

३ अभिमान (सूत्र १, १६) । ४ न अभि-  
मान, गर्व (भग १२, ५) ।

उणय पु [उन्नय] नीति का अभाव (भग  
१२, ५) ।

उणा स्त्री [ऊर्णा] ऊन, भेड के रोम  
(भावम) । °पिपीलिया स्त्री [°पिपीलिका]  
चोटी, जलु-विशेष (दे ६, ४८) ।

उणाअक वि [उन्नायक] ? उन्नति-कारक ।

२ पुन छन्द शास्त्र प्रसिद्ध मध्य-गुरु चतुष्कल  
की सजा (पिग) ।

उणाग पु [उन्नाक] ग्राम-विशेष (भावम) ।

उणाम पुं [उन्नाम] ? उन्नति, ऊँचाई (सि  
६, ५६) । २ गर्व, अभिमान । १ गर्व का  
कारण-भूत कर्म (भग १२, ५) ।

उणाम सक [उद् + नमय्] ऊँचा करना  
(सि ४, ५६) ।

उणामिय वि [उन्नमित] ऊँचा किया  
हुआ (गा १६, २५६, से ६, ७१) ।

उणाल सक [उद् + नमय्] ऊँचा करना ।

उणालइ (प्राकृ ७५) ।

उणालिय वि [दे] ? कृश, दुर्बल । २  
उन्नमित, ऊँचा किया हुआ (दे १, १३६) ।

उणिय वि [उन्नीत] वितर्कित, विचारित  
(सि १३, ७७) ।

उणिय अ वि [और्णिक] ऊन का बना हुआ  
(ठा ६, ३, शोध ७०६, ८६ भा) ।

उणियइ वि [उन्निट्ट] ? विकसित, उन्नमित  
(गडड) । २ निद्रा-रहित (माल ८५) ।

उणी सक [उद् + नी] ? ऊँचा ले जाना ।

२ कहना । भवि उणोइ (विते ३५८५) ।

क्वक्क उणइज्जमाण (राज) ।

उणुअ पुं [दे] ? हुँकार । २ आकाश की  
तरफ मुँह किए हुए कुत्ते की आवाज (दे  
१, १३२) । ३ वि गवित, 'एव भणियो सतो  
उणुअओ मो कहेइ सव्व तु' (वव २, १०) ।

उणु पु [उण] ? आतप, गरमी (खाया  
१, १) । २ वि गरम, तप्त (कुमा) ।

उणवण न [उणन] गरम करना (पिडं  
२४०) ।

उणिआ स्त्री [दे] कृसर, खिचडी (दे  
१, ८८) ।

उण्हीस पुत [उण्णीष] पगडी, मुकुट (हे  
२, ७५) ।

उण्होदयभट्ट पु [दे] भ्रमर, भमरा, भौरा (दे  
१, १२०) ।

उण्होला स्त्री [दे] कीट-विशेष (भावम) ।

उणाहो अ [उताहो] अथवा या (वि ८५) ।

उत्त वि [उत्त] कथित, अभिहित (सुर १०,  
७६, स ३७६)

उत्त वि [उत्त] ? बोया हुआ । २ निष्पादित,  
उत्पादित, 'देवसते अए लोए वमस्तेति  
यावरें' (सूत्र १, १, ३) ।

उत्त पुं [दे] वनस्पति-विशेष (राज) ।

°उत्त वि [गुप्त] रक्षित (सूत्र १, १, ३, ५) ।

उत्त देखो पुत्त (गा ८४; सुर ७, १५८) ।

उत्तइय } वि [उत्तेजित] (दश० नि० गा०  
उत्तुइय } १११. अग०) ।

उत्तघ देखो उत्तघ = रुव् । उत्तघइ (हे ४,  
१३३) ।

उत्तघ देखो उत्तंभ । उत्तघइ (प्राकृ ७०) ।

उत्तत देखो वुत्तत (पड्, विक्र ३६) ।

उत्तपिअ वि [दे] खिल, उद्विग्न (दे १,  
१०२) ।

उत्तंभ सक [उत् + स्तम्भ्] ? रोकना ।

२ अवलम्बन देना, सहारा देना । कर्म.  
उत्तमिज्जइ, उत्तमिज्जेति (पि ३०८) ।

उत्तभण न [उत्तम्भन] ? अवरोध । २  
अवलम्बन (उप पृ २२१) ।

उत्तंभय वि [उत्तम्भक] ? रोकनेवाला ।

२ अवलम्बन देनेवाला, सहायक (उप पृ  
२२०) ।

उत्तंस पुं [अवतस] शिरो-भूषण, अवतस  
(गडड, दे २, ५७) ।

उत्तस पु [उत्तस] कर्णपूरक, कनफूल, कर्ण-  
भूषण (पाम्र) ।

उत्तइय वि [दे] उत्तेजित, अथिक दीपित  
(दसन ३, ३५) ।

उत्तण वि [दे] गवित (सट्टि ५६ टी) ।

देखो उत्तुण ।

उत्तण वि [उत्तण] गृणवानो जमीन,  
'वित्तखिलभूमिवत्तराइ उत्तरणधर्सकडाइ  
उत्तणु' (परह १, १)।

उत्तणुअ वि [उत्तणुक] अग्निमानी, गर्विष्ठ  
(पात्र)।

उत्तत्त वि [उत्तत्त] अति-नम, बहुत गरम  
(नुपा ३७)।

उत्तत्त वि [दे] अव्याजित, आरूढ (पद्)।

उत्तत्थ वि [उत्तत्थ] भय-भीन, शत्रु-प्राप्त  
(परह १, ३ पात्र)।

उत्तद्ध देखो उत्तरद्ध (पिंग)।

उत्तप्प वि [ट] १ गवित, अग्निमानी (दे १,  
१३१, पात्र)। अग्निक गृणवाना (दे १३१)।

उत्तप्प वि [उत्तप्प] देशोप्यमान (राज)।

उत्तम पु [उत्तम] एक दिन का उपवास  
(मनोच ५८)।

उत्तम वि [उत्तम] १ श्रेष्ठ, प्रशन्त, सुन्दर  
(जप्य, प्रानू ६)। २ प्रवान, मुख्य (पचा ४)।  
३ परम, उत्कृष्ट, 'उत्तमकट्टपत्ते' (भग ७, ६)।  
४ अन्त्य, अन्तिम (राज)। ५ पु मेरु-पर्वत  
(इक)। ६ समय, त्याग (दसा ५)। ७  
राजस वग का एक राजा, स्वनाम-रथात एक  
नकेय (पत्तम ५, २६७)। ८ पु [ार्थ]  
१ श्रेष्ठ वस्तु। २ मोक्ष (उत्त २)। ३ मोक्ष-  
नार्थ, 'जीवा ठिया परमट्टम्मि' (पत्तम २,  
८१)। ४ अनशन, मरण (श्रीव ७)।  
०ण वि [०ण] लेनदार (नाट)।

उत्तम वि [उत्तमस्] अज्ञान-रहित,  
'तिविहृतमा उम्मुक्का, तम्हा ते उत्तमा इति'  
(श्रावनि ५५, कप्प)।

उत्तमग न [उत्तमाङ्ग] मन्तक, सिर (सम  
५०, कुमा)।

उत्तमा स्त्री [उत्तमा] १ 'शावावम्मकहा'  
का एक अश्वयन (शाया २, १)। २ इन्द्रायणी  
(शाया २, १, ठा ४, १)।

उत्तमा स्त्री [उत्तमा] पक्ष की प्रथम रात्रि  
(सुज १०, १४)।

उत्तम्म अक [उत्त+तम्] खिन्न होना,  
उद्विग्न होना। उत्तम्मइ (स २०३)। वक्र  
उत्तम्मंत, उत्तम्ममाण (नाट)। सक्क  
उत्तम्मिअ (नाट)।

उत्तम्मिअ वि [उत्तान्त] खिन्न, दिलगीर  
(दे १, १०२, पात्र)।

उत्तर अक [उत्त+त्] १ बाहर निकलना।  
२ सक पार करना। उत्तरिस्सामो (स  
१०१)। वक्र उत्तरत,  
'पेच्छति अग्निमिसच्छा पहिआ  
हलिअस्म पिट्टुपडुरिअ।  
धूम दृढसमुदुत्तरतलच्छि

विअ सअएहा' (गा ३८८),  
'उत्तरताण य मरु, खववारो तिसाए मरिउ-  
मारद्धो' (महा)। सक्क उत्तरिन्तु (वि ५७७)।  
हेक. उत्तरित्तए (पि ५७८)।

उत्तर अक [अत्त+त्] उत्तरना, नीचे आना।  
वक्र उत्तरमाण, 'उत्तरमाणस्स तो विमा-  
णाओ' (नुपा ३४०)। उत्तर वि [उत्तर]  
१ श्रेष्ठ, प्रशन्त (पत्तम ११८, ३०)। २  
प्रवान, मुख्य (मूम १, ३)। ३ उत्तर-दिशा  
में रहा हुआ (ज १)। ४ उपरि-वर्ती,  
उपरितन (उत्त २)। ५ अग्निक, अतिरिक्त,  
'अट्टुत्तर—' (श्रीव, मूम १, २)। ६  
अवान्तर, भेद, शाखा, 'उत्तरपगइ' (कम्म  
१)। ७ ऊन का बना हुआ वस्त्र, कम्बल  
वर्गरू (कप्प)। ८ न जवाव, प्रयुत्तर (वव  
१)। ९ वृद्धि (भग १३, ४)। १० पु.  
ऐरवत क्षेत्र के वाईसवें भावी जिनदेव का  
नाम (नम १५४)। ११ वर्षा कल्प (कप्प)।  
१२ एक जैन मुनि, आर्य-महागिरि के प्रथम  
शिष्य (कप्प)। ०कचुय पु [०कचुय]  
वस्तर-विशेष (विपा १, २)। ०करण न  
[०करण] उपस्कार, संस्कार, विशेष-गुणज्ञान,  
'खडियविराहियाए,  
मूलगुणएण सउत्तरगुणएण।  
उत्तरकरण कीरइ, जह  
सगड-रहण-गेहाए' (आव ५)।

०कुरा स्त्री [०कुरु] स्वनाम-रथान क्षेत्र-विशेष,  
'उत्तरकुराए ए भंते। कुराए केरिसए आगार-  
भावपाडोयारे परएणत्ते' (जीव ३)। ०कुरु  
पु [०कुरु] १ वर्ष-विशेष, 'उत्तरकुरुमाण-  
सच्छरावो' (पि ३२८, सम ७०, परह १,  
४, पत्तम ३५, ५०)। २ देव-विशेष (ज २)।  
०कुरुकूड न [०कुरुकूट] १ मान्यवत पर्वत  
का एक शिखर (ठा ६)। २ देव-विशेष

(ज ४)। ०कोडि स्त्री [०कोटि] सगीतशास्त्र-  
प्रसिद्ध गान्वा-ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा  
७)। ०गधारा स्त्री [०गन्धारा] देवी  
पूर्वोक्त अर्थ (ठा ७)। ०गुण पु [०गुण]  
शाखा गुण, अवान्तर गुण (भग ८, ३)।  
०चावाला स्त्री [०चावाला] नगरी-विशेष  
(आवम)। ०चूल [०चूड] गुरु-वन्दन का एक  
दोप, गुरु को वन्दन कर बड़े आवाज से 'मत्थ-  
एण वदामि' कहना (धर्म २)। ०चूलिया स्त्री  
[०चूलिका] देवी अनन्तर-उक्त अर्थ (वृह ३,  
गुमा २५)। ०द्ध न [०र्ध] पिछला आधा  
भाग उत्तरार्ध (ज ४)। ०दिसा स्त्री [०दिश]  
उत्तर दिशा (मुर २, २२८)। ०द्ध न [०र्ध]  
पिछला आधा भाग (पिंग)। ०पगइ ०पयहि  
स्त्री [०प्रकृति] कर्मों के अवान्तर भेद (उत्त  
३३, सम ६६)। ०पञ्चत्थिमिह पु [०पा-  
ञ्चात्थ] वायव्य कोण (पि)। ०पट्ट पुं  
[०पट्ट] विद्यौना के ऊपर का वस्त्र (श्रीव  
१५६ भा)। ०पारणग न [०पारणक]  
उपवासादि व्रत की समाप्ति, पारण (काल)।  
०पुरच्छिम, ०पुरत्थिम पुं [०पौरत्थ] १  
ईशान कोण, उत्तर और पूर्व के बीच की  
दिशा (शाया १, १, भगः पि ६०२)।  
०पोट्टवया स्त्री [०पौष्टपदा] उत्तरा भाद्रपदा  
नक्षत्र (मुज ४)। ०फग्गुणी स्त्री [०फाल्गुनी]  
उत्तर-फाल्गुनी नक्षत्र (कप्प, पि ६०)।  
०वल्लिस्सह पु [०वल्लिस्सह] १ एक प्रसिद्ध  
जैन साधु (कप्प)। २ उत्तर वलिस्सह नामक  
म्यविर ने निकाला हुआ एक गण, भगवान्  
महावीर का द्वितीय गण—साधु-संप्रदाय  
(कप्प, ठा ६)। ०भद्वया स्त्री [०भाद्रपदा]  
नक्षत्र-विशेष (ठा ६)। ०मदा स्त्री [०मन्दा]  
मध्यम ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७)।  
०महुरा स्त्री [०मथुरा] नगरी विशेष (दस)।  
०वाय पु [०वाद] उत्तरवाद (शाचा)।  
०विक्रिय, ०वेउत्त्रिय वि [०वैक्रिय]  
स्वानाविक-मिन्न वैक्रिय, वनावटी वैक्रिय  
(कम्म १ कप्प)। ०माला स्त्री [०शाला]  
१ क्रीडा-गृह। २ पीछे ने बनाया हुआ घर।  
३ वाहन-गृह हाथी-घोडा आदि वांघने का  
स्थान, तवेना (निबू ८)। ०साहग, ०साहय  
वि [०साधक] विद्या, मन्त्र वर्णरूढ़ का

साधन करनेवाले का सहायक (मुपा १५१, म ३६६)। देखो उत्तरा<sup>१</sup>।  
 उत्तरओ अ [उत्तरत] उत्तर दिशा की तरफ (ठा ८, भग)।  
 उत्तरग न [उत्तरङ्ग] १ दरवाजे का ऊपर का काष्ठ (कुमा)। २ वि चपल, चचल (मुद्रा २६८)।  
 उत्तरकुरु पृ व [उत्तरकुरु] १ देव-भूमि स्वर्ग (स्वप्न ६०)। २ स्त्री भगवान् नमिताय की दीक्षाशिविका (विचार १२६)।  
 उत्तरण न [उत्तरण] १ उतरना, पार करना (ठा ५, स ३६२)। २ अनन्तरण, नीचे आना (ठा १०)।  
 उत्तरणवरडिया स्त्री [दे] उडुप, जहाज, डोंगी (दे १, १२०)।  
 उत्तरविउच्चिव्य वि [उत्तरवैक्रियिक] उत्तर-वैक्रियनामक लट्ठि से सम्पन्न (पच २, २०)।  
 उत्तरमंग देखो उत्तरा-मंग (पव ३८)।  
 उत्तरा स्त्री [उत्तरा] १ उत्तर दिशा (ठा १-१)। २ मध्यम ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७)। ३ एक दिशा-कुमारी देवी (ठा ८)। ४ दिगम्बर-मत-प्रवर्तक आचार्य शिवमूर्ति की स्वनाम स्यात भगिनी (विसे)। ५ अहिच्छया नगरी की एक बापी का नाम (ती)। ६ ण्डा स्त्री [नन्दा] एक दिक्कुमारी देवी (राज)। ७ पृष्ठं पृं [पथ] उत्तरदिशा-स्थित देश, उत्तरीय देश (आचू २)। ८ फग्गुणी देखो उत्तर-फग्गुणी (सम ७, इक)। ९ भद्दवया देखो उत्तर-भद्दवया (सम ७, इक)। १० यण न [यण] उत्तरायण, सूर्य का उत्तर दिशा में गमन, माघ से लेकर छ महीना (सम ५३)। ११ यया स्त्री [यता] गान्धार-ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७)। १२ वह देवी पृष्ठं (महा, उव १४२ टी)। १३ सग पृं [सग] उत्तरीय वक्र का शरीर में न्यास-विशेष, उत्तरायण (कप्यः भग, भ्रौप)। १४ समा स्त्री [समा] मध्यम ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७)। १५ साढा स्त्री [पाढा] नक्षत्र-विशेष (सम ६, कस)।  
 हुत्त न [भिमुख] १ उत्तर की तरफ। २ वि. उत्तर दिशा की तरफ हुँह किया हुआ (भोष ६५०, श्राव ४)।

उत्तरिज्ज } न [उत्तरीय] चादर, दुपट्टा  
 उत्तरिय } (उवा, प्राप्रः हे १, २४८),  
 'जरजिञ्ज उत्तरिय' (मुपा ५४६),  
 उत्तरिय वि [उत्तीर्ण] १ उतरा हुआ, नीचे आया हुआ (सुर ६, १५६)। २ पार पहुँचा हुआ (महा)।  
 उत्तरिय वि [औत्तरिक, औत्तराह] देखो उत्तर (ठा १०; विसे १२४५)।  
 उत्तरिह वि [औत्तराह] उत्तर दिशा या काल में उत्पन्न या न्यत, उत्तर-सम्बन्धी, उत्तरीय, 'अह उत्तरिहस्यो' (मुपा ४२, मम १००, भग)।  
 उत्तरीअ देखो उत्तरीय = उत्तरीय (कुमा, हे १, २४८, महा)।  
 उत्तरीकरण न [उत्तरीकरण] उल्टु बनाना, विशेष शुद्ध करना, 'तस्स उत्तरीकरणेण' (पडि)।  
 उत्तरोट्ट पु [उत्तरीष्ट] १ ऊपर का श्रोत्र (पि ३६७)। २ श्मश्रू, मूँछ (राज)।  
 उत्तलहअ पु [दे] विटप, अकुर (दे १, ११६)।  
 उत्तव वि [उत्तवत्] जिसने कहा हो वह (पि ५६६)।  
 उत्तस अक [उत् + त्स] १ प्राप्त पाना, पीडित होना। २ डरना, भयभीत होना। वक्क उत्तसंत (सुर १, २४६, १०, २२०)।  
 उत्तसिय वि [उत्तस्त] १ भयभीत। २ पीडित (सुर १, २४६)।  
 उत्ताड सक [उत् + ताडय्] १ ताडना, ताडन करना। २ बाध बजाना। कवक्क 'उत्ताडिज्जताण दहरियाणं कुडवारणं' (राय)।  
 उत्ताडण न [उत्ताडन] १ ताडना करना (कुमा)। २ बाध बजाना (राज)।  
 उत्ताण वि [उत्तान] १ उन्मुल, ऊर्ध्व-मुल (पचा १८)। २ चित्त (विपा १, ६, ठा ४, ४)। ३ विस्फारित; 'उत्ताणायणपेच्छ-रिण्जा पासादीया दरिसिण्जा' (भ्रौप)। ४ अनिपुण, अकुशल, 'उत्ताणमई न साहए घम्म' (घम्म ८)। ५ साइय वि [शायिन्] चित्त सोनेवाला (कस)।  
 उत्ताणअ } ऊपर देखो (भग, गा ११०,  
 उत्ताणग } कस)।

उत्ताणपत्तय वि [दे] एरएड-सम्बन्धी (पत्ती वगैरह), (दे १, १२०)।  
 उत्ताणिअ वि [उत्तानित] १ चित्त किया हुआ (से ६, ८९, गा ४६०)। २ चित्त सोनेवाला (दसा)।  
 उत्तार सक [अव + तारय्] नीचे उतारना। वक्क उत्तारेमाण (ठा ५)।  
 उत्तार सक [उत् + तारय्] १ पार पहुँचाना। २ बाहर निकालना। ३ दूर करना, 'देहो नईए वित्तो, तन्नो एए जइ नो उत्तारिंता तो ह मरिऊए' (मुपा ३५७, काल)।  
 उत्तार पु [उत्तार] १ उतरना, पार करना, 'अणुसोभो संसारो पडिमोसो तस्स उत्तारो' (दम २), 'एहउत्ताराह' (उवर ३२)। २ परित्याग (विसे १०४२)। ३ उतारनेवाला, पार करानेवाला, 'भवसयसहस्सदुलहे, जाहज्जामरणसागरोत्तारे। जिणवयणम्मि गुणायर! खणमवि मा काहिंसि पमाय' (प्रासू १३४)।  
 उत्तार पु [दे] आवास-स्थान, गुजराती में 'उतारो' (सिरि ७००)।  
 उत्तारण न [उत्तारण] १ उतारना २ दूर करना। ३ बाहर निकालना। ४ पार करना; 'ता अज्जवि मोहमहाअहिंसवेगा फुरंति तुह वाढ। ताणुत्तारणहेटं, तम्हा जत्त कुणसु भद्द।' (मुपा ५५७, विसे १०४०)।  
 उत्तारय वि [उत्तारय] पार उतारनेवाला (स ६४७)।  
 उत्तारिअ वि [उत्तारित] १ पार पहुँचाया हुआ। २ दूर किया हुआ। ३ बाहर निकाला हुआ, 'तेणवि उत्तारिओ भूमिविवराओ' (महा)।  
 उत्ताल वि [उत्ताल] १ महान्, बडा, 'उत्ताल-तालयाण वरिएहि दिज्जमाणाय' (मुपा ५०२)। २ उतावला, शीघ्रकारी, 'कहवि उत्तालो अण्णडिलेहियसेज्ज गिएहतो' (मुपा ६२०)। ३ उद्धत (दे १, १०१)। ४ वेताल, ताल विरुद्ध गान का एक दोष, 'गायतो मा

पगाहि उन्नालं' (ग ७), 'भीयं द्रुयमुष्पिच्छ-  
त्यमुत्ताल न कममो मुणोयव्व' (जीव ३)।

उत्ताल न [दे] लातार रुदन, अन्तर-रहित  
क्रन्दन की आवाज (दे १, १०१)।

उत्तालण देखा उत्ताडण।

उत्तावल न [दे] उतावल, शीघ्रता। २ वि  
शीघ्रकारी, 'आकूल, 'हल्लुत्तावलिगहदामिवि-  
हियत्कालकरणिज्जे' (सुर १०, १)।

उत्ताम सक [उत् + ताम्य] १ भयभीत  
करना, डराना। २ पीटना, हैरान करना।  
उत्तामेदि (गौ) (नाट)। कृ उत्तामणिज्ज  
(तट्ट)।

उत्ताम पु [उत्तास] १ त्रास, भय। २  
हैरानी (कप्प)।

उत्तासडत्तु वि [उत्तासयित्तु] १ भय-भीत  
करनेवाला। २ हैरान करनेवाला (आचा)।

उत्तामणथ } वि [उत्तासन्नक] १ भयकर,  
उत्तामणग } उद्वेग-जनक। २ हैरान करने-  
वाला (पत्तम २२, ३५, गाय १, ८)।

उत्तासिय वि [उत्तामित] १ हैरान किया  
हुआ। २ भयभीत किया हुआ (सुर १, २४७,  
आव ४)।

उत्ताहिय वि [दे] उत्तिहण, फेंका हुआ (दे  
१, १०६)।

उत्ति स्त्री [उत्ति] वचन, वाणी (आ १४,  
सुपा २३, कप्प)।

उत्तिग पु [उत्तिङ्ग] १ गर्दभाकार कीट-विशेष  
(वर्म २, निचू १३)। २ चींटियों का  
बिल, 'उत्तिगपणगदगमट्टीमन्नकडासताणामक-  
मणे' (पडि)। ३ चींटियों की सन्तान (दसा  
३)। ४ तृण के अग्रभाग पर स्थित जल-बिंदु  
(आचा)। ५ वनस्पति-विशेष, सपंचड्या,  
गुजराती में जिसको 'बिलाडी नी टोप' कहते हैं,  
'गहणेमु न चिदिठ्ठज्जा,

वोएमु हरिपु वा।

उदगम्मि तथा निच्च,

उत्तिगपणगेमु वा' (दस ८, ११)।

६ न छिद्र, विवर, रस्त्र (निचू १८, आचा  
२, ३, १, १६)। लोण न [लण] कीट-  
विशेष का गृह—बिल (कप्प)।

उत्तिगपणग पुन [उत्तिङ्गपनक] कीटिका-  
नगर, चींटियों का बिल (दस ५, १, ५६)।

उत्तिट्ट अक [उत् + म्था] १ उठाना। २  
उदित होना। वक्क 'उत्तिट्टन्ते दिवाये' (उत्त  
११, २४)।

उत्तिण वि [उत्तिण] तृण-शूष्य,

'कमावाउत्तिणपरिवर-

पनोदट्टमनिनवारहि।

कुडुनिहियोहिद्विअह

रक्कइ अज्ज करअलेहि

(गा १७०)।

उत्तिणिअ वि [उत्तिणिअ] तृण-रहित किया  
हुआ, 'कमावाउत्तिणिअ परम्मि' (गा १३४)।

उत्तिणग वि [उत्तिणग] १ बाहर निकला हुआ,  
'उत्तिणगा तलागासो' (महा)। दिट्ट च महा-

सरवर, मज्जिमो जहाविहि तम्मि, उत्तिणगो  
य उत्तरपच्छिमतोरे' (महा)। २ पार पहुँचा

हुआ, पार-प्राप्त (स ३२२) 'उत्तिणगा  
समुद, पना वीयमय' (महा)। ३ जो कम

हुआ हो, 'मचरइ चिरपडिगहनायएणुनि-  
सरएवेसमोहगा' (गउड)। ४ रहित, 'मोहइ

अदोसनावो मुणोव्व जइ होइ मच्छउत्तिणगो  
(गउड)। ५ निपटा हुआ, निमने कार्य समाप्त

किया हो वह, 'एहाणुत्तिणगा' (गा ५५५)।

६ उल्लिखित, अतिक्रान्त (राज)।

उत्तिण्ण वि [अवतीर्ण] १ नीचे उतरा हुआ,  
'रायादक्को, तेण साहा गहिया, उत्तिण्णो,

निराएदो किक्कायव्वविमुदो गमो चप' (महा)।

उत्तिथ पुंन [उत्तीर्थ] कुपय, अपमार्ग (निवि)।

उत्तिम देवो उत्तम (पड, पि १०१, हे १,  
४१, निचू १)।

उत्तिमग देवो उत्तमग (महा, पि १०१)।

उत्तिन्न देवो उत्तिण्ण (काप्र १४६, कुमा)।

उत्तिरिदिडि } स्त्री [दे] भाजन वगैरह का  
उत्तिवडा } ऊँचा डेर, भाजनों की यप्पी,

गुजराती में जिसको 'उतरवेड' कहते हैं (दे  
१, १२२), 'फोडेह विरालो लोलायाए नागेवि  
उत्तिवड' (उप ५२८ टी)।

उत्तंग वि [उत्तुङ्ग] ऊँचा, उन्नत (महा,  
कप्प, गउड)।

उत्तुण्ड वि [उत्तुण्ड] उन्मुल, उर्व-मुष  
(गउड)।

उत्तुण वि [दे] तर्क-युक्त, दृप्त, अभिमानी  
(दे १, ६६, गउड)।

उत्तुण्णिय वि [दे] म्निघ; चिकना (विपा  
१, २)।

उत्तुय सक [उत् + तुद] पीटा करना,  
हैरान करना। वक्क. उत्तुयत (विपा १, ७)।

उत्तुरिद्धि स्त्री [दे] गर्व, अभिमान। २ वि,  
गर्वित, अभिमानी (दे १, ६६)।

उत्तुर्वे वि [दे] दृष्ट, देखा हुआ (पड)।

उत्तुहिअ वि [दे] उद्यष्टित, छिन्न, नष्ट  
(दे १, १०५, १११)।

उत्तुण्ड पु [दे] मिनाग-रहित इनारा, तट-  
शूष्य कूप (दे १, ६४)।

उत्तअ वि [उत्तेजम्] १ तेजस्वी, प्रखर।  
२ पु मात्रावृत्त का एक भेद (पिग, नाट)।

उत्तेअग न [उत्तेजन] उत्तेजन (मुद्रा १६८)।

उत्तेअ } वि [उत्तेजित] उद्दीपित, प्रोत्सा-  
उत्तेजिअ } हित, प्रेरित (दस ३, पाप्र)।

उत्तेड } पु [दे] विन्दु (पिण्ड १६),  
उत्तेडय } सितो व एसा घटततएहि' (स  
२६४)।

उत्थ न [उत्थ] १ स्तोत्र-विशेष। २ योग-  
विशेष (विसे)।

उत्थ वि [उत्थ] उत्थन्न, उत्थित (सुपा  
१६६, गउड)।

उत्थ (श्री) देवो उट्टु = उत् + स्था। उत्थेदि  
(प्राक ६४)।

उत्थइय वि [अवस्तृण] १ व्याप्त (से ४,  
२८)। २ प्रचारित, फैलाया हुआ। ३

आच्छादित, 'अच्छरामउयमनूरगउच्छ-  
(? त्य)-इयं भद्राणया र्यावेइ' (गाया १, १,  
पि ३०६)।

उत्थगिअ देवो उत्थधिअ = उत्तमिअ (पि  
५०४)।

उत्थय नक [उत् + नम्य] ऊँचा करना,  
उन्नत करना। उत्थयइ (हे ४, ३६)।

उत्थय सक [उत् + न्मम्भ] १ उठाना।  
२ अवलम्बन देना। ३ रोकना (गउड, से  
५, ६)। उत्थयइ (गा ७२४)।

उत्थय सक [उत् + क्षिप्] ऊँचा फेंकना।  
उत्थयइ (हे ४, १४४)। सक. उत्थधिअ  
(कुमा)।

उत्थय सक [रुव्] रोकना। उत्थयइ (हे  
४, १३३)।

उत्थघ पुं [उत्तम्भ] ऊर्ध्व-प्रसरण, ऊँचा फेलाना (ने ६, ३३) ।  
 उत्थघण न [उत्तम्भन] ऊपर देखो (गडड) ।  
 उत्थघि वि [उत्तैपिन्] ऊँचा-फेकना (गडड) ।  
 उत्थविअ वि [उत्तमिन] ऊँचा किया हुआ, उन्नत किया हुआ (कुमा) ।  
 उत्थविअ वि [रुद्ध] रोका हुआ (कुमा) ।  
 उत्थघिअ वि [उत्तम्भित] उत्थापित, उठाया हुआ (ने ५, ६०) ।  
 उत्थभि वि [उत्तम्भिन] १ आघात-प्राप्त, अवलम्बन करनेवाला, 'वारिज्जड जननिहीवि कल्लोलोत्तरमिसत्तकुलसेलो । न हु अन्नजम्मनिम्मिअ-मुहामुहो कम्म-परिणामो ॥' (प्रासु १२७) ।  
 उत्थभिअ वि [उत्तम्भित] १ अवलम्बित । २ रुका हुआ, न्तम्भित; 'अइपीणत्यणउत्थं-मिआणणे सुणणु 'सुणणु मह वअण' (गा ६२४) । ३ कन्धन-मुक्त किया हुआ (म ५६८) ।  
 उत्थभिर देखो उत्तभि (वज्जा १५२) ।  
 उत्थग्घ पुं [दे] समदं, उपमदं (दे १, ०३) ।  
 उत्थपण देखो उट्टयण (कूप ११७) ।  
 उत्थय देखो उत्थइय (कप्प), 'निपडति तणोत्थयइपियाउ तुंगावि मायगा' (उप ७२८ टी) ।  
 उत्थर सक [आ + क्रम्] आक्रमण करना । सक उत्थरिअ वि (अप) (भवि) ।  
 उत्थर सक [अव + स्त्] १ आच्छादन करना, ढकना । २ परामव करना । वक. उत्थरंत, उत्थरमाण (पएह १, ३, राज) ।  
 उत्थर १ सक [उत् + स्त्] आच्छादन उत्थल १ करना (?) । उत्थरइ, उत्थलड (प्राक ७५) ।  
 उत्थरिअ वि [आक्रान्त] आक्रान्त, दबाया हुआ; 'अथरिअवगिग्राइं अककत' (पाघ, भवि) ।  
 उत्थरिय वि [दे] १ निम्बत, निगंत (स ४७३) ।

'अच्छुक्कुत्थरियमहल्लवाह-  
 - भरनीसहा पडिया' (सुपा २०) ।  
 २ उत्थित, उठा हुआ (दे ७, ६०) ।  
 उत्थल न [उत्थल] १ ऊँची बूल राशि, उपत रज पुञ्ज (भग ७, ६ टी) । २ उन्मागं, कुपय (मे ८, ६) ।  
 उत्थलिअ न [दे] १ घर, गृह । २ वि उमुख-गत, ऊँचा गया हुआ (दे १. १०७, स १८०) ।  
 उत्थल अक [उत् + शल्] उद्धतना, बूदना । उत्थलड (पड) ।  
 उत्थलपत्थल स्त्री [दे] दोनो पार्श्वों में परिवर्तन, उचल-गुचन (दे १, १२२) ।  
 उत्थल लो [दे] १ परिवर्तन (दे १, ६३) । २ उद्धर्तन (गडड) ।  
 उत्थलिअ वि [उत्थलित] उठला हुआ, 'उत्थलिनं उच्छलिनं' (पाघ) ।  
 उत्थाइ वि [उत्थायिन्] उठनेवाला (दे ८ १६) ।  
 उत्थाइय वि [उत्थापिन] उठाया हुआ, 'पुञ्जुत्थाइयनररदेने दडाहिव ठवड महण' (सुपा ३५२) ।  
 उत्थाण न [उत्थान] १ वीर्यं, बल, पराक्रम (विने २८-२६) । २ उत्थान, उपत्ति, 'वधावाही अमज्जेन नियतइ अ्रोसहेहि कएहि । तम्हा तीउत्थाण निवमियव्व हिण्णीहि' (मुपा ४०४) ।  
 उत्थामिय (अप) वि [उत्थापित] उठाया हुआ (भवि) ।  
 उत्थार सक [आ + क्रम्] आक्रमण करना, दवाना । उत्थारइ (हे ४ १६०, पड) ।  
 उत्थार देखो उच्छाइ = उसाह (हे २, ४८, पड) ।  
 उत्थारिय वि [आक्रान्त] आक्रान्त, दबाया हुआ, 'अथारिअप्रंतरगरिउवगो' (कुमा, सुपा ५४६) ।  
 उत्थिय देखो उट्टिय (हे ४, १६, पि ३०) ।  
 उत्थिय देखो उत्थइअ (पंचान) ।  
 उत्थिय वि [वीथिक] मत्तानुयायी, दर्शना-नुयायी (उवा, जीव ३) ।  
 उत्थिय वि [यूथिक] सूय प्रविष्ट, 'अएण-उत्थिय—' (उवा, जीव ३) ।

उत्थुभण न [अवस्तोभन] अनिष्ट को शान्ति 'के लिए किया जाता एक प्रकार का कौतुक, धू-धू आवाज करना । (वृह १) ।  
 उट न [उट] जल, पानी, 'अवि, साहिए दुवे वासे मीधोदं अमोच्चा निक्खते' (आचा, भग ३, ६) । °उल्ल °ओल्ल वि [°ट्टि] पानी से गीला । (श्रोष ४८६, पि १६१) ।  
 °गत्ताभ न [°गत्ताभ] गोत्र-विशेष (ठा ७) ।  
 उटइय देखो ओटइय (अणु) ।  
 उटइल्ल वि [उटयिन्] उदयवान्, उन्नति-शील, 'सिरिअमपदेवसूरी अणुव्वसूरो सयावि उटइल्लो' (मुग ६२२) ।  
 उटक पु [उट्टक] जल का पात्र-विशेष, जिससे जल ऊँचा छिड़का जाता है (ज २) ।  
 उटच मक [उट् + अञ्च्] ऊँचा जाना (कुमा) ।  
 उटचण प [उटञ्चन] १ ऊँचा फेकना । १ वि ऊँचा फेकनेवाला (अणु) ।  
 उटचिर वि [उटच्चित्] ऊँचा जानेवाला (कुमा) ।  
 उटत पु [उटन्त] हकीकत, समाचार, वृत्तान्त, 'एिअमेअण कइवल वीमोदतो व्व राहवस्त उवणियो' (ते ४, ५५, स ३०, भग) ।  
 उटप पु [उट्टप] कृष्णराज पुत्र उदय (नल-दव० राम० अणुपिबधन) ।  
 उट्ग पुन [उटक] जल पानी, 'चत्तारि उट्गा पएणत्ता' (ठा ४, जी ५) । २ वनस्पति-विशेष (दस ८, ११) । ३ जलाशय (भग १, ८) । ४ पु स्वनाम स्यात् एक जैन साधु । ५ सातवें भावी जिनदेव (सूअ २, ७) । °गठभ पु [गर्भ] वादल, अन्न (भग २, ५) । °दोणि लो [°दोणि] १ जल रखने का पात्र-विशेष, ठंडा करने के लिए गरम लोहा जिसमें डाला जाता है वह (भग १६, १) । २ जो अरधट्ट में लगाया जाता है वह छोटा घटा (दस ७) । °पोग्गल न [पौद्गल] वादल, मेघ (ठा ३, ३) । °मच्छ पु [°मत्थ] इन्द्र-धनुष का खण्ड, उत्पात-विशेष (भग ३, ६) । °माल पु लो [°माल] जल का ऊपर चढ़ता तरंग, उदक-शिखा, वेला (ठा १०, जीव ३) । °वत्थि लो



[वस्ति] इति, पानी नरने का मशक (शाया १, १८) । °मिहा ली [°शिखा] वेना (ठा १०) । °सीम पु [°सीमन्] पर्वत-विशेष (इक) ।

उदग्ग वि [उदग्र] १ सुन्दर, मनोहर, 'तनो दट्ठु तीए ख्व वह जोखणमुदग' (सुर १, १२२) । २ उग्र, उक्कट, प्रखर (ठा ४, २; शाया १, १; सत्त ३०) । ३ प्रधान, मुख्य: 'उदग्गारित्तवो महेसी' (उत्त १३) ।

उदड्ढ पु [उदग्घ] एक नरक-स्थान (वेवेन्द्र २७) ।

उदत्त वि [उदान्त] उदार, अकृपण (संबोध ३८) ।

उदत्त वि [उदान्त] स्वर-विशेष, जो उच्च स्वर से बाला जाय वह स्वर (विने ८५०) ।

उदन्ना ली [उदन्या] तुषा, तरस, पिपासा (उप १०३१ टी) ।

उदय देखो उदग (शाया १, ८; सम १५३; उप ७२८ टी; प्रानू ७२, पण्ण १) ।

उदय पु [उदय] लाम (सूय २, ६, २४) ।

उदय पु [उदय] १ अम्युदय, उन्नति: 'जो एवत्रिपि कज्ज आवरइ, सो कि वंमदत्त-कुमारस्स उदयं इच्छइ ?' (महा) । २ उत्पत्ति (विसे) । ३ विपाक, कर्म-परिणाम:

'वहमारणअन्नक्खाणदाण

परवरविलोवणायइण ।

मव्वजहन्तो उदग्गो दसणुरिण्णो

एकसि क्याण' (उप) ।

४ प्रादुर्भाव, उदगम; 'आइच्चोदए चदगहा इव निप्यभा जाया मुखा' (महा),

'उदयम्मिद्वि अत्थमणेवि

वरड रत्तत्तए दिवसनाहो ।

रिद्धीषु आवईसुवि

तुल्लच्चिव गणू सप्पुरिसा ।'

(प्रानू १२) ।

५ भरतलोत्र के भात्री सातवें जिनदेव (सम १५३) । ६ भरतलोत्र में होनेवाले तीसरे जिनदेव का पूर्व-भवीय नाम (सम १५४) । ७ त्वनाम-ख्यात एक राजकुमार (पउम २१, ५६) । °यल पुं [°यल] पर्वत-विशेष, जहाँ सूर्य उदित होता है (सुपा ८८) ।

उदयंत देखो उदि ।

उदयण पुं [उदयन्] १ राजा सिद्धराज का प्रसिद्ध मंत्री (कृप १४३) ।

उदयण पुं [उदयन्] १ एज राजकुमार, कोणाम्बी नगरी के राजा शतातीक का पुत्र (विपा १, ५) । २ एक विल्यात जैन राजा (कप्य) । ३ न उन्नति, उदय । ४ वि उन्नत होनेवाला, प्रवर्धमान (ठा ५, ३) ।

उदर न [उदर] १ पेट, जठर (नूय १, ८) । २ पेट की बीमारी; 'खयजरवणलूयानाससो-सोदराणि' (लहृय १५) ।

उदरभरि वि [उदरम्भरि] न्धार्या, अक्केनपेट (पि ३७६) ।

उदरि वि [उदरिन्] पेट की बीमारीवाग (पण्ण २, ५) ।

उदरिय वि [उदरियि] ऊपर देखो (विपा १, ७) ।

उदवाह वि [उदवाह] १ पानी वहन करने-वाला, जल-वाहक । २ पु. छोटा प्रवाह (भग ३, ६) ।

उदसी [दि] [उदश्चित्त ?] तक

उदहि पुं [उदधि] १ समुद्र, सागर (कुमा) । २ भवनपति देवों की एक जाति, उदधिकुमार (पण्ण १, ४) । °कुमार पुं [°कुमार] देवों की एक जाति (पण्ण १) । देखो उअहि ।

उदाइ पु [उदायिन्] १ एक जैन राजा, महाराजा कोणिक का पुत्र, जिसको एक दुष्ट ने जैन साधु बनकर धर्म-च्छेदन से मारा था श्रीर जो भविष्य में तीसरा जिनदेव होगा (ठा २, ती) । २ पु. राजा कूणिक का पट्ट-हस्ती (भग १६, १) ।

उदाइण देखो उदायण (कुलक २३) ।

उदान्त देखो उदत्त (एदि १७४ टी) ।

उदायण पु [उदायन्] सिन्धु-देश का एक राजा, जिसने भावानु महावीर के पास दीक्षा ली थी (ठा ८, भग ३, ६) ।

उदार देखो उराल (उप पु १०८) ।

उदासि वि [उदासिन्] उदास, उदासीन । °व न [°त्व] श्रीदासीन्य (रमाः स ४५६) ।

उदासीण वि [उदासीन] १ मध्यम्य, तटस्थ (पण्ण १, २) । २ उपेक्षा करनेवाला (ठा ६) ।

उदाहड वि [उदाहत्त] कथित, दृष्टान्ति (राज) ।

उदाहर सक [उदा + ह] १ कहना । २ दृष्टान्त देना । उदाहरति (पि १८१), 'भासं मुसं नेव उदाहरिजा' (सत्त ४३) । भूका. उदाह (आचाः उन १४, ६), उदाह (सूय १, १२, २) । वहु उदाहरंत (सूय १, १२, ३) ।

उदाहरण न [उदाहरण] १ कण, प्रति-पादन । २ दृष्टान्त (सूय १, १२, विने) ।

उदाहिय वि [उदाहत्त] १ कथित, प्रति-पादित । २ दृष्टान्तित (आचाः शाया १, ८) ।

उदाहिय वि [दि] उक्ति, फेंका गया (पड्) । उदाहु देखो उदाहर ।

उदाहु म [उताहो] अथवा, या (उवा) ।

उदाहु देखो उदाहर ।

उदाहो देखो उदाहु = उताहो (स्वप्न ७०) ।

उदि अक [उद् + इ] १ उन्नत होना । २ उत्पन्न होना । (विसे १२६६, जीव ३) । वहु उदयत (भग, पउम ८२, ५६; सुपा १६८) । कवहु उदिज्जत (विसे ५३०) ।

उदिकिखअ वि [उदीक्षित] अवनोक्ति (दि ६, १४४) ।

उदिण वि [उदीच्य] उत्तर-दिशा में उत्पन्न (आवम) ।

उदिण्ण } वि [उदीर्ण] १ उदित, उदय-प्राप्त  
उदिन्न } (ठा ५), 'इकी वि इकी विसग्गो उदिन्नो' (सत्त ५२) । २ फलोन्मुख (कर्म) (पण्ण १६, भग) । ३ उत्पन्न, 'नहा उदिएणो नणु कोवि वाही' (सत्त ८, था २७) । ४ उक्कट, प्रवल, 'अणुत्तरोववाइयाण भंति । देवा कि उदिएण मोहा, उवसतमोहा, खीणमोहा ?' (भग ५, ४) ।

उदिय वि [उदित] १ उदित, उदगत (सम २६) । २ उन्नत (ठा ४) । ३ उक्त, कथित (विने ३५७६) ।

उदीण वि [उदीचीन] १ उत्तर दिशा से संबन्ध रखनेवाला, उत्तर दिशा में उत्पन्न (आचाः पि १६५) । °पाईणा ली [°प्राचीना] ईशान-कोण (भग ५, १) ।

उदीणा ली [उदीचीना] उत्तर दिशा (ठा १, १) ।

उदीर सक [उद् + ईरय्] १ प्रेरणा करना।  
 २ कहना, प्रतिपादन करना। ३ जो कर्म उदय-प्राप्त न हो उसको प्रयत्न-विशेष से फलोन्मुख करना। उदीरइ, उदीरेंति (भग, पनि ७८)। भूका उदीरिमु, उदीरेंसु (भग)। भवि उदीरिस्सति (भग)। वक्क उदीरेंत (ठा ७), 'कुसलवइमुदीरेंतो' (उप ६०४)। -कवक्क उदीरिज्जमाण (परण २३)। हेक्क उदीरेंत्तए (कस)।  
 उदीरणा देखो उदीरय (पच ५, ५)।  
 उदीरय न [उदीरण] १ कथन, प्रतिपादन।  
 २ प्रेरणा। ३ काल-प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न-विशेष से किया जाता कर्म-फल का अनुभव (कम्म २, १३)।  
 उदीरणया } श्री [उदीरणा] ऊपर देखो  
 उदीरणा } (कम्म २, १३, १), 'ज करणे-  
 णोकट्टिय उदए दिव्वइ उदीरणा एमा' (कम्मप १४३, १६६)।  
 उदीरय वि [उदीरक] १ कथक, प्रतिपादक।  
 २ प्रेरक, प्रवर्तक, 'एकमेवक विसयविसउदीरएसु' (परह १, ४)। ३ उदीरणा करनेवाला, काल-प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न-विशेष से कर्म-फल का अनुभव करनेवाला (कम्मप १५६)।  
 उदीरिद देखो उदीरिय (राय ७४)।  
 उदीरिय वि [उदीरित] १ प्रेरित, 'चालियाण धट्टियाण खोमियाण उदीरियाण केरिसे सद्धो भवति' (राय, जीव ३)। २ कथित, प्रति-पादित, धोरे धम्मे उदीरिए' (आचा)।  
 ३ जनित, कृत, 'ससद्धासा फससा उदीरिया' (आचा)। ४ समय-प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न-विशेष से खींच कर जिनके फल का अनुभव किया जाय वह (कर्म) (परण २३, भग)।  
 उदु देखो उउ (प्राप; अग्नि १८९, पि ५७)।  
 उदुवर देखो उवर (कस)।  
 उदुरुह सक [उद् + रुह्] ऊपर चढना।  
 उदुरुहइ (पि ११८)।  
 उदुखल देखो उऊखल (पि ६६)।  
 उदुग पुन [दे] पृथिवी-शिला (चंचा ८, १० टी)।  
 उदुलिय वि [दे] अवनत, नीचा नमा, हुआ (पद्)।

उदूहल देखो उऊहल (आचा, पि ६६)।  
 उद् न [दे] १ जल-मानुष। २ ककुद, वैले के कंधे का कूबह (दे १, १२३)। ३ मत्स्य-विशेष। ४ उसके चर्म का बना हुआ वस्त्र (आचा)।  
 उद् वि [आद्र] गीला, आद्र (पद्)।  
 उद्अ वि [उद्यत] उद्यम-युक्त (प्राक्क २१)।  
 उद्दड } वि [उद्डण्ड] १ प्रचण्ड, उद्धत  
 उद्डग } (कुमा, गउड)। २ पु हाथ मे दाड को ऊँचा रखकर चलनेवाले तापसो की एक जाति (श्रीप; निचू १)।  
 उद्दतुर वि [उद्दतुर] १ जिसका दंत बाहर आया हो वह। २ ऊँचा (गउड)।  
 उद्दभ पु [उद्दभ] छन्द का एक भेद (पिग)।  
 उद्दस पुं [उद्दस] मधुमक्षिका, मत्स्य आदि छोटा कीट (कप्प)।  
 उद्दुह पुं [उद्दुध] रत्नप्रभा नरक-पृथिवी का एक नरकावास (ठा ६)। 'मज्झिम पु [मध्यम] रत्नप्रभा पृथिवी का एक नरकावास (ठा ६)। 'वित्त पु [वित्त] देखो पूर्वोक्त अर्थ (ठा ६)। 'विसिट्टु पुं [विसिट्टु] देखो पूर्वोक्त अर्थ (ठा ६)।  
 उद्दुर न [दे ऊर्ध्वदर] सुमिश्र, मुकाल (वृह १)।  
 उद्दम पुन देखो उज्जम = उग्रम (प्राक्क २१)।  
 उद्दुरिअ वि [दे] १ उत्खात, उखाडा हुआ (दे १, १००)। २ स्फुटित, विकसित, 'फुडिअ फलिअ च दलिअ उद्दुरिअ' (प्राप्)।  
 उद्दुरिअ वि [उद् + दृप्त] गवित, उद्धत, अभिमानी (एदि)।  
 उद्दलण न [उद्दलण] विदारण (गउड)।  
 उद्दव सक [उद्, उप + द्र] १ उपद्रव करना, पीडा करना। २ मारना, चिनाश करना, हिंसा करना, 'तए ए सा रेवई गाहा-वईणी अणया कयाइ तासि दुवालसएह सवत्तीण अंतर जाणित्ता छ सवत्तीओ सत्यप्प-भोगेण उद्दवेइ, उद्दवेइत्ता छ सवत्तीओ विसप्पभोगेण उद्दवेइ, उद्दवेइत्ता तासि दुवालसएह सवत्तीण कोलपरिय एगमेगं हिरण्णकोडि एगमेग वय समयेव पडिव्वेइ, २, त्ता महासयएण समणोवासएण सदि उरालाइ भोगभोगाइ भुजमारो विहरइ' (उवा)।

भवि उद्दवेहिइ (भग १५)। कवक्क उद्द-विज्जमाण (सूम २, १)। क. उद्दवेयव्व (सूम २, ३)।  
 उद्दवअ पुं [उद्दव, उपद्रव] १ उपद्रव।  
 २ विनाश, हिंसा, 'आरभो उद्दवओ' (आ ७)।  
 उद्दवइत्तु वि [उद्दवोत्त, उपद्रवोत्त] १ उपद्रव करनेवाला। २ हिंसक, विनाशक, 'सि हता छेत्ता भेत्ता लुपित्ता उद्दवइत्ता विलुपित्ता अकड करिस्सामि ति मन्नमारो' (आचा)।  
 उद्दवग न [उद्दवग, उपद्रवग] १ उपद्रव, हरकत, 'उद्दवण पुण जाणसु अइवायविवज्जिय' (पिड, श्रीप)। २ विनाश, हिंसा (स ८४, आचा)।  
 उद्दवण न [अपद्रावण] मृत्यु को छोड़कर मव प्रकार का दुख, 'उद्दवण पुण जाणसु अइवायविवज्जिय पीड' (पिडभा २५, पिड ६७)।  
 उद्दवणया } श्री [उद्दवणा, उपद्रवणा]  
 उद्दवणा } ऊपर देखो (भग, परह १, १)।  
 उद्दवाइअ देखो उद्दुवाइय, 'समणस्स ए भगवओ महावीरस्स एव गणा हत्था, तं—  
 गोदासे गणे उत्तरवत्तिस्सहगणे उद्देहगणे चारणगणे उद्दवातित-(इअ)-गणे विस्सवाति-(इअ) गणे कामडित्त-(अ)-गणे मारावगणे कोडित्तगणे' (ठा ६)।  
 उद्दविअ वि [उद्दवुत्त, उपद्रुत्त] १ पीडित, 'सधाइआ सधट्टिआ परियाविआ किलामिआ उद्दविया ठाणाओ ठाण सकामिया' (पिड)।  
 २ विनाशित, 'नाऊण विभगेण नियजिट्टमुयस्स विलसिय, तो सो सकुट्टु वो उद्दविओ' (सुपा ४०६)।  
 उद्दवेत्तु देखो उद्दवइत्तु (आचा)।  
 उद्दा सक [उद् + दा] बनाना, निर्माण करना। उद्दाइ (भग)।  
 उद्दा अक [अव + द्रा] मरना। उद्दाई, उद्दायाति (भग)। सक्क उद्दाइत्ता (जीव ३, ठा १०, भाग)।  
 उद्दाइत्ता श्री [उद्दोत्ती, उपद्रोत्ती] उपद्रव करनेवाली स्त्री, 'ताए वा उद्दाइए कोइ संजओ गहितो होज्जा' (श्रीव १८ मा टी)।  
 उद्दाइन देखो उद्दाय = शुभ्।  
 उद्दाइत्ता देखो उद्दा = अव + द्रा।

उद्भाग स्त्री [दे] चूल्हा, चूल्ही, जिसपर रसोई पकाई जाती है (दे १, ८७)।

उद्भाग वि [अवद्रात] मृत, 'उद्भाणे मोइयम्मि चैड्याइ वदामि' (सुख १, ३)।

उद्भाग वि [उद्भाग] १ स्वर, च्चन्द (पात्र)। २ प्रचण्ड, प्रखर, 'ता सजलजल-हृद्दामगहिरमहेण ताण त कहइ' (सुपा २३४)। ३ अव्यवस्थित (हे १, १७७)।

उद्भाग पु [दे] १ सघात, समूह। २ त्यपुट, विपमोन्नत प्रदेश (दे १, १२६)।

उद्भागिय वि [उद्भागित] लट्कता हुआ, प्रलम्बित, 'तय ए वहेवे ह्यी पासति नएणदवद्वम्मियगुडिते उष्पीलियकच्चे उद्भागियघटे' (विपा १, २)।

उद्भाय अक [शुभ] शोभना, शोभित होना, अच्छा मालूम देना। वक्क 'उववरोमु परहुय-व्यपरिभितमकुलेसु उद्भायत रत्तईदगोव ययोवयकारुन्नविलविणु' (णया १, १)। उद्भाइत (णया १, १ वी)।

उद्धार देखो उराल = उदार, 'देमि न कस्सवि जंपइ उदारजणम्म विविहरयणाइ' (वज्जा १००)।

उद्धारिअ वि [दे] १ युद्ध से पलायित, रण-द्रुत। २ उन्नात, उन्मूलित (पद्)।

उद्दाल सक [आ + छिद्] स्त्री लीना, हाथ से छीन लेना। उद्दालइ (हे ४, १२८, पद्, महा)। हेइ उद्दालेउ (पि ५७७)।

उद्दाल पु [अवदाल] १ दबाव, अवदलन, 'तसि तारिम्मणि मयणिच्चजि गगापुलिण-वालुअउद्दालसालिसए' (कप्प, णया १, १)। २ वृक्ष-विशेष (जीव ३)। ३ अवसर्पिणी काल का प्रथम आरा—समय-विशेष (ज २)।

उद्दालिय वि [आच्छिन्न] छीना हुआ, स्त्री लीया गया (पात्र, कुमा; उप पृ ३०३), 'दो सारवलिददावि हु तेहि उद्दालिया' (सुपा २३८)।

उद्दावणया स्त्री [उपद्रावणा] उपद्रव, हैरानी (राज)।

उद्दाह पु [उद्दाह] १ प्रखर दाह। २ भाग (ठा १०)।

उद्दाहग वि [उद्दाहक] भाग लगानेवाला (परह १, ३)।

उद्दिट्ठ वि [उद्दिट्ठ] १ कथित, प्रतिपादित (विपा २, १)। २ निर्दिष्ट (दस)। ३ दान के लिए संकल्पित (ग्रन्थ, पानादि), 'णाय-पुत्ता उद्दिट्ठमत्त परिवज्जयति' (सूत्र २, ६)। ४ लज्जित (सूत्र २, ६)। ५ न उद्देश (पचा १०)। ६ रुद्ध वि [°कृत] नाधु के उद्देश से बनाया हुआ, नाधु के निमित्त किया हुआ (भोजनादि) (दस १०)।

उद्दिट्ठा स्त्री [दे उद्दिष्टा] तिथि-विशेष, श्रमावस्था (श्रीप)।

उद्दित्त वि [उद्दीप्त] प्रज्वलित (वृह १)।

उद्दिस सक [उद् + दिग्] श्राद्ध करना। कर्म उद्दिमिज्जति (अणु ३)।

उद्दिस सक [उद् + दिग्] १ नाम निर्देश पूर्वक वस्तु का निरूपण करना। २ देखना। ३ संकल्प करना। ४ लक्ष्य करना। ५ श्रागीकार करना। ६ सम्मति लेना। ७ समाप्त करना। ८ उपदेश देना। उद्दिसइ (वव २, ७)। कर्म 'दस अज्जयणा एक्क-तरणा दसमु चैव दिवसेमु उद्दिससति' (उत्ता)। कवक्क उद्दिसिज्जत (आवम)। सक 'गयो तासि समीव, पुच्छियं मट्टरवाणीए एक्क कल्लग उद्दिसिऊण, कयो तुम्मे' (महा-वव ७), 'तदवसाणे य एक्का पवरमहिला वंभुमई उद्दिसम कुमारउत्तमंगे अक्कए पक्खवइ (महा), उद्दिसिय (आचा २, १, अग्नि १०४)। हेइ उद्दिसिउ, उद्दिसिउत्तए (वव १० भा; ठा २, १)। प्रयो उद्दिसावित्तए, उद्दिसावेत्तए (वृह १, कस)।

उद्दिमिअ देखो उद्दिट्ठ (आचा २)।

उद्दिसिअ वि [दे] उत्प्रेक्षित, वितर्कित (दे १, १०६)।

उद्दीरणा देखो उद्दीरणा, 'उद्दीरणउदयाण जं नाएत्त तय वोच्छ' (पंच ५, ६८)।

उद्दीवण न [उद्दीपन] १ उत्तेजन। २ वि उत्तेजक (मै ५८, रमा)।

उद्दीवणज्ज वि [उद्दीपनीय] उद्दीपक, उत्तेजक, 'मयणुद्दीवणिउज्जेहि विविहेहि भूवणेहि' (रमा)।

उद्दीविअ वि [उद्दीपित] प्रदीपित, प्रज्वलित (पात्र), 'चीयाए पक्खिविअ ततो उद्दीविअो जलणो' (मुर ६, ८८)।

उद्दुट्टय वि [उद्दुत्त] पलायित (पट्टम ६, ७०)।

उद्दुट्टय वि [उपद्रुत] हैरान किया हुआ (स १३१)।

उद्देश देखो उद्दिस उद्देशइ (भवि)।

उद्देश पु [उद्देश] १ पठन-नियमक श्रुतिज्ञा (अणु ३)। २ नाम का उच्चारण (तिरि १०६०)। ३ वाचन, मूत्र-प्रदान, नूरों के मूल पाठ का अध्यापन (पत्र १)।

उद्देश पु [उद्देश] १ नाम-निर्देश पूर्वक वस्तु-निरूपण (विशेष)। २ शिक्षा, उपदेश, 'उद्देशो पासणस्स एत्थि'। ३ व्यपदेश, व्यवहार (आचा)। ४ लक्ष्य। ५ श्रमिप्राय, मतलब (विशेष)। ६ ग्रन्थ का एक अंश (नग १, १)। ७ प्रदेश, अथवा, 'बुद्धमि बुद्धिअममरा आवाआलगाहिता समदुद्देशो' (वे ५, १६, १, २०)। ८ श्रुतिप्रतिज्ञा, श्रुत-वचन (विशेष)। ९ जगह, न्यान (कणू)।

उद्देश वि [ओद्देश] देखो उद्देशिय = ओद्देशिक (पिड २३०)।

उद्देशण न [उद्देशान] १ पाठन, वाचना, अध्यापन 'उद्दिदसण वायएत्ति पाठणया चैव एट्ठा' (पचमा, परह २, ५)। २ अधिकारिता, योग्यता (ठा ४, ३)।

उद्देशणकाल पु [उद्देशानकाल] मूलसूत्र के अध्यापन का समय (णदि २०६)।

उद्देशणा स्त्री [उद्देशना] ऊपर देखो (पचमा)।

उद्देशिय न [ओद्देशिक] १ भिक्षा का एक दोष, साधु के लिए भोजन-निर्माण। २ वि साधु निमित्त बनाया हुआ (भोजन) (कस), 'उद्देशिय तु कम्म एत्थ उद्दिदस्स कीरण जति' (पचा १७, ठा ६, अत)।

उद्देशिय वि [ओद्देशिक] १ उद्देश-सम्बन्धी उद्देश से किया हुआ। १ विवाह आदि के उपलक्ष्य में किए गए जीवन में निमग्नियों के भोजन की समाप्ति के अनन्तर वचे हुए वे साधु द्रव्य जिनको सर्वजातीय भिक्षुओं को देने का संकल्प किया गया हो (पिड २२६)।

उद्देह पु [उद्देह] भगवान् महावीर का एक गण—साधु समुदाय (ठा ६, कप्प) ।  
 उद्देहलिया स्त्री [उद्देहलिका] वनस्पति-विशेष (राज) ।  
 उद्देहिया } स्त्री [दे] उपदेहिका, दीमक,  
 उद्देही } श्रीन्द्रिय जन्तु विशेष (जी १६, स ४३५; श्लो ३२३), 'उद्देहीइ उद्देही' (दे १, ६३) ।  
 उद्देहग वि [उद्देहक] घातक, हिंसक (परह १, ३) ।  
 उद्दे देखो उद्देह (से ३, ३३, पि ८३, महा: हे २, ५६, ठा ३, २) ।  
 उद्देअ वि [उद्देत] १ उन्मत्त (से ४, १३, पात्र) । २ गर्वित, अभिमानो (भग ११, १०) । ३ उत्पाटित (राया १, १) । ४ अतिप्रवृत्त; 'उद्देतमंधकार-' (परह १, ३) ।  
 उद्देअ देखो उद्देरिअ = उद्देधृत; 'पावल्लेण उद्देच्च व उद्देयपयवारणा उ उद्दारो' (वव १०) ।  
 उद्देअ वि [दे] शान्त, ठढा (पड्) ।  
 उद्देत देखो उद्दा ।  
 उद्देस सक [उद् + धृष्] १ मारना । २ आक्रोश करना, गाली देना । उद्देवेइ (भग १५) । उद्देसंति (राया १, १६) ।  
 उद्देस सक [उद् + ध्वस्] विनाश करना । संक उद्देसिऊण (स ३६२) ।  
 उद्देसण न [उद्देर्पण] १ आक्रोश, निर्मत्सर्न । २ वच, हिंसा (राज) ।  
 उद्देसणा स्त्री [उद्देर्पणा] ऊपर देखो (श्लो ३८ भा), 'उच्चावयाहि उद्देरणाहि उद्देसंति, (राया १, १६) ।  
 उद्देसिय वि [उद्देपित] आक्रुष्ट, जिसपर आक्रोश किया गया हो वह (निवू ४) ।  
 उद्देच्छवि वि [दे] विसंवादित, अप्रमाणित (दे १, ११४) ।  
 उद्देच्छविअ वि [दे] सज्जित, तैयार (दे १, ११६) ।  
 उद्देच्छिअ वि [दे] निपिद्ध, प्रतिपिद्ध (दे १, १११) ।  
 उद्देट्टु देखो उद्धर ।  
 उद्देह वि [उद्देधृत] उठा कर रखा हुआ (धमं ३) ।

उद्धण वि [दे] उद्धत, अविनीत (पड्) ।  
 उद्धत्य वि [दे] विप्रलब्ध, वञ्चित (दे १, ६६) ।  
 उद्धदेहिय न [और्ध्वदेहिऋ] अग्नि-संस्कार आदि अन्त्येष्टि क्रिया (स १०६) ।  
 उद्धम सक [उद् + हन्] १ शख वगैरह फूंकना, वायु भरना । २ ऊँचा फेंकना, उठाना । कवक उद्धम्मताण सखाण सिंगाण सखियाण खरमुहीण' (राय), 'पायालसहस्स-वायवसवेगमलिलउद्धम्ममाणदगरयरयघकारं (रयणागरसागर)' (परह १, ३, श्लोप) ।  
 उद्धर सक [उद् + ह्] १ फेंसे हुए को निकालना, ऊपर उठाना । २ उन्मूलन करना । ३ दूर करना । ४ खींचना । ५ जीएँ मन्दिर वगैरह का परिष्कार-संस्कार करना । ६ किसी ग्रथ या लेख के अश-विशेष को दूसरी पुस्तक या लेख में अतिकल नकल करना । भवि उद्धरिस्सइ (स ५६६) । वक पइनगरं पडगाम पाय जिणमदिराइ पूयतो, जिन्नाइ उद्धरतो' (सुपा २२४) ।  
 'जयइ धरमुद्धरतो भरणीसारियमुहंगचलणेण । गियवेहेण करेण व पचगुलिणा महाकुम्मो । (गठ) ।  
 सक उद्धरिउ, उद्धरिऊण, उद्धरित्ता, उद्धरित्तु, उद्धट्टु (पचा १६, प्राह), 'त लय सव्वसो छित्ता, उद्धरित्ता समूलया' (उत्त २३, पचा १६), 'वाह उद्धट्टु कक्ख-मणुच्चजे' (सूत्र १, ४), 'तसे पाणे उद्धट्टु पादं रीइज्जा' (आचा २, ३, १, ४) ।  
 उद्धर (अप) देखो उद्धुर (भवि) ।  
 उद्धरण न [उद्धरण] १ ऊपर उठाना । २ फेंसे हुए को निकालना (गठ), 'दीणुद्धरणम्मि घरां न पत्त' (विवे १३५) । ३ उन्मूलन । ४ अपनयन (सूत्र १, ४, ६) ।  
 उद्धरण वि [दे] उच्छिष्ट, बूटा (दे १, १६६) ।  
 उद्धरिअ वि [उद्देधृत] १ उत्पाटित, उत्क्षिप्त, 'हक्खुत्त उच्छेह उक्खित्त-उप्पाडिमाइ उद्धरिअ' (पात्र) । २ किमी ग्रन्थ या लेख के अश विशेष को दूसरे पुस्तक या लेख में अतिकल नकल कर देना; 'एसो जीवविचारो, सखेइण जाणणा-हेउ । संखित्तो उद्धरिओ, हंदाओ सुय-समुदाओ' (जी ५१); 'जेण उद्धरिया विजा, आगासगमा महापरिणामो' (आवम) । ३ आक्रुष्ट, खींचा हुआ । ४ निष्कासित, बाहर निकाला हुआ, 'उद्धरियसव्वसल्ल—' (पचा १६) । ५ जीएँ वस्तु का परिष्कार करना, 'जिणमदिरं न उद्धरिअ' (विवे १३३) ।  
 उद्धरिअ वि [दे] अदित, विनाशित (पड्) ।  
 उद्धल पु [दे] दोनों तरफ की अप्रवृत्ति (पड्) ।  
 उद्धव पु [उद्धव] ऊधो, श्रीकृष्ण का चाचा, मित्र और भक्त (रुक्मि ४६) ।  
 उद्धवअ वि [दे] उत्क्षिप्त, फेंका हुआ (दे १, १०६) ।  
 उद्धविअ वि [दे] अर्घित, पूजित (दे १, १०७) ।  
 उद्धा } सक [उद् + धाव्] १ दौडना,  
 उद्धाअ } वेग से जाना । २ ऊँचे जाना । उद्धाइ (पि १६५) । वक उद्धत, उद्धाअत, उद्धायमाण (कप्प; से ६, ६६, १३, ६१, श्लोप) ।  
 उद्धाअ अक [ऊर्ध्वाय्] ऊँचा होना । वक उद्धाअमाण (से १३, ६१) ।  
 उद्धाअ वि [उद्धाव] उद्धावित, ऊँचा गया हुआ; 'छिण्णकडए वहत उद्धाअणिअत्तगड-मग्गिअसिहरे' (से ६, ३६) ।  
 उद्धाअ पु [दे] १ विपमोन्नत प्रदेश । २ समूह । ३ वि थका हुआ, श्रान्त (दे १, १२४) ।  
 उद्धाअ वि [उद्धावित] १ फैला हुआ, विस्तीर्ण, प्रखत (से ३, ५२) । २ ऊँचा वीर्य हुआ (से २, २२) ।  
 उद्धार पु [उद्धार] १ प्राण, रक्षण (कुमा) । २ ऋण देना, उधार देना (सुपा ५६७, आ १४) । ३ अपहरण (अणु) । ४ अपवाद (राज) । ५ धारणा, पढ़े हुए पाठ को नही भूलना; 'पावल्लेण उद्देच्च च व उद्देयपयवारणा उ उद्दारो' (वव १०) । 'पल्लिओवम न [पल्ल्योपम] समय का एक परिमाण (अणु) । 'समय पु [समय] समय-विशेष (अणु) । 'सागरोचम न [सागरोचम] समय का एक दीर्घ परिमाण (अणु) ।  
 उद्धरय वि [उद्धारक] उद्धार-कारक (कुप्र २) ।

उद्भाव देवो उद्भा ।

उद्भवण न [उद्भावन] नीचे देखो (श्रा १) ।

उद्भावणा स्त्री [उद्भावना] १ प्रवन प्रवृत्ति ।

२ दूर-गमन, दूर क्षेत्र में जाना (वर्म ३) । ३ कार्य की गोत्र सिद्धि (वव १) ।

उद्भि देखो बुद्धि (पड्) ।

उद्भि स्त्री [दे] गाड़ी का एक अत्रयव, गुजराती 'उव' (मुत्र १-८ टी, ठा ३, २ टी-मत्र १३३) ।

उद्भिअ देवो उद्भिरिअ = उद्भृत (श्रा ४०, श्रौप, राय, वव १, श्रौप, पच २८) ।

उद्भिमुह वि [ऊर्ध्वीमुख] मँह ऊँचा किया हुआ (चद ४) ।

उद्भुयलिय वि [दे] धुँधलाया हुआ (सण) ।

उद्भुणिय देवो उद्भुय (सण) ।

उद्भुम नक [पृ] पूर्ण करना, पूरा करना । उद्भुमइ (हे ४, १५६) ।

उद्भुमा नक [उद् + ध्मा] १ आवाज करना । २ जार में घमती को चनाना । उद्भुमाइ उद्भु-माप्रइ (पड्, प्राप्ता) ।

उद्भुमाइअ वि [उद् + ध्मापित] ठडा किया हुआ, निर्वापित (ने १, ८) ।

उद्भुमाय वि [दे] १ परिपूर्ण, 'मायाइ उद्भु-माया' (कुमा), 'पडिह्वयमुद्भुमाय ग्राहिरेइयं च जाए ग्राहणे' (रादि) । २ उन्मत्त, 'ममग्दरमुद्भुमायमुहलमहुअरं' (मे ६, ११) ।

उद्भुय वि [उद्भृत] १ पवन में उठा हुआ (से ७, १८) । २ प्रसूत, फैला हुआ, 'गधुदु-याभिगामं' (श्राप) । ३ प्ररम्पित, 'वाउदुय-विजयजेयनी' (जीव ३) । ४ उन्कट, प्रवन (मम १३७) । ५ व्यक्त, प्रकट (कप्प) ।

उद्भुर वि [उद्भुर] १ ऊँचा, उच्च, उद्भुर उच्च' (पात्र) । २ प्रचण्ड, प्रवल (सुर ३, ३६, १२, १०६) ।

उद्भुवत } देवो उद्भू  
उद्भुवामाण }

उद्भुमिय वि [उद्भुपित] १ रोमाञ्च, 'मत्तोमजपिण्हि हसिउद्भु सिण्हि खिप्पमाणो य' (उव) । २ वि रोमाञ्चित, पुलकित (दे १, ११५, २, १००), 'उद्भुमियरोमकूवो नीयनप्रनिनेण संकुञ्जगतो' (सुर २, १०१), 'उद्भुमियनेमरसडं' (महा) ।

उद्भू सक [उद् + धू] १ कौपाना, चलाना । २ चामर वगैरह बीजना, पखा करना । कवक उद्भुवत, उद्भुवमाण (पठम २, ४०, कप्प) ।

उद्भुणिय देवो उद्भुय (सण) ।

उद्भूह (शौ) देवो उद्भुय (चान ३५) ।

उद्भूल सक [उद् + वूल्य] १ व्याप्त करना । २ घूलि लगाना । उद्भूलेइ (हे ४, २६) ।

उद्भूलण न [उद्भूलन] घूलि को अन्न पर लगाना, 'जारमसाणममुवभवभूडनुहण्णसमिजिरणीए । ए ममण्णइ एवकावालिआइ उद्भूलणारभो' (गा ४०८) ।

उद्भूलिय वि [उद्भूलिन] १ घूलि से लपटा हुआ । २ व्याप्त, 'तिमिरोद्भूलियभवण' (कुमा) ।

उद्भुवणिया स्त्री [उद्भुवणिया] घुप देना, 'वित्रि हु विरानतत्रयपुरीसमीसहि गुगुनाईहि । उव्वरियम्मि त्रिवित्ता उद्भुवणिय पयच्छति ।' (सुर १४, १७४) ।

उद्भुविअ वि [उद्भुपिन] जिमको घुप किया गया हो वह (विक्र ११३) ।

उद्भोम पु [उद्भुपे] उल्लास, ऊचा होना (सिद्धि ६५), 'ज ज उह मुद्भुमकुओ चित्तिवइ त नव्व रोमुदोस जणेइ मह अम्मो' (मुगा ६४) ।

उन्न न [ऊर्ण] ऊन, भेड या बकरो के रोम । 'मय वि [मय] ऊन का बना हुआ, 'गोवालियाण विदं नच्चावइ फारमुत्तियाहार । उन्नयवासनिवमणपीणुत्तयवणहराभोग ॥' (मुपा ४३२) ।

उन्न (अप) वि [विपण] विपाद-प्राप्त, विन्न (पड्) ।

उन्नइ देखो उण्णइ (काल, मुपा २५७, प्राप् २८, सार्व ३४) ।

उन्नइजमाण देवो उन्नी ।

उन्नइय वि [उन्नीत] ऊँचा लिया हुआ (पठम १०५, ५७) ।

उन्नइ सक [उद् + नन्द] अभिनन्दन करना । कवक 'हियमालामहत्तेहि उन्नदिजमाणे' (कप्प) ।

उन्नय देवो उण्णय (मुपा ४७६, सम ७१, कप्प) ।

उन्ना देवो उण्णा । 'मय वि [मय] ऊन का बना हुआ (मुपा ६४१) ।

उन्नाडिय न [उन्नाटित] हर्ष-श्रोतक आवाज (न ३७६) ।

उन्नाम पु [उन्नाम] १ ऊँचाई । २ अभिमान, गर्व (मम ७१) ।

उन्नामिअ वि [उन्नमित] ऊँचा किया हुआ (पात्र, महा, स ३७७) ।

उन्नालिअ वि [दे] देवो उण्णालिअ, 'उन्ना-लिअ उन्नामिअ' (पात्र) ।

उन्नाह पु [उन्नाह] ऊँचाई (पात्र) ।

उन्निअ देवो उण्णिअ = श्रौणिक (श्रोच ७०५) ।

उन्निक्कय सक [उन्नि + खन्] उखाडना, उन्नु-नन करना । भवि उन्निक्कम्मामि (सूय २, १, ६) । क उन्निक्कखेयव्य (सूय २, १, ७) ।

उन्निक्कयमण न [उन्निक्कमण] दीक्षा छोड़ कर फिर गृहस्थ होना, माधुपन छोड़कर फिर गृहस्थ बनना (उप १३० टी, ३६६) ।

उन्नी देखो उण्णी । कवक उन्नइजमाण (कप्प) ।

उन्नाल (अप) पु [उण्णकाल] शीष्म ऋतु (भवि) ।

उपक्कर न [उपस्कर] घर का उपकरण (उत्त ६, ६) ।

उपत न [उपान्त] १ पिछला या पीछे का भाग । २ वि ममीपस्थ (गा ६६३) ।

उपरि } देवो उवरि (वित्ते १०२१, पड्) ।  
उपरि }

उपरिइ देखो उवरिइ (पड्) ।

उपवजमाण देखो उववाय = उप + वाइय् ।

उपसत्प देखो उवसत्प । उपसत्पइ (पड्) । सक उपसत्पिय (नाट) ।

उपाणहिय पुत्ती [उपानत्] जूता, 'अन्न-दिणे जपाणेपाणहिए मुत्तमारुवा' (मुपा ३६२), 'तह स निउपाणहियाउवि वाहिस्स' (मुपा ३६२) ।

उत्प देखो ओत्प = अर्षय् । उप्पेइ (पि १०४; हे १, २६६) ।

उत्पन्न वि [उत्पत्ति] ऊँचा गया हुआ, उठा हुआ, 'सि वि भ्रान्तो उत्पन्न' (उवाः सुर ३, ६६) । २ उत्पन्न, ऊँचा (भ्राचा) । ३ उद्भूत, उत्पन्न (उत्त २) । ४ न उत्पन्न, उठना (श्रीप) ।

उत्पन्न वि [उत्पात्त] उत्पापित, उठाया हुआ, 'बुद्धिउत्पन्नमुणाल ददूण पित्र व सिटिलवलन्न रुत्तिण' (मे १, ३०) ।

उत्पन्नव्य } देखो उत्पन्न = उत् + पत् ।  
उत्पन्नं }

उत्पन्न वि [दे] १ बहु, अत्यन्त । २ पु पद्ध, कीचड, काँदी । ३ उत्पत्ति (दे १, १३०) । ४ समूह, राशि (दे १, १३०, पात्र, गड्ड, स ४३७) ।

उत्पन्न पुं [दे] समूह, राशि, 'रावपल्लव विसरण, पहिया पेच्छति ब्रह्मस्वस्स ।

कामस्म लेहउत्पगराद्धं

हृत्पमल्लं व ॥' (गा ५८५) ।

उत्पन्न भ्रक [उत् + पद्] उत्पन्न होना । उत्पत्ति (कप) । बहु उत्पन्नत, उत्पन्न-माण (से ८, ५५, सम्म १३४, भगः विसे ३३२२) ।

उत्पन्न सक [उत् + पत्] उठना, ऊँचा जाना, कूदना (भ्रामा) ।

उत्पन्न पुं [उत्पत्] शीन्द्रिय जन्तु-विशेष, खुद कीट-विशेष (राज) ।

उत्पन्न देखो उत्पन्न (नाट) ।

उत्पन्न सक [उत् + पू] धान्य बगैरह को मूप आदि से साफ-सुधरा करना । कर्म. 'साली वीही जवा य लुव्वंतु मलिज्जंतु उत्पन्नजंतु य' (पएह १, २) ।

उत्पन्न न [उत्पन्न] मूप आदि से धान्य बगैरह को साफ-सुधरा करना (दे १, १०३) ।

उत्पन्न वि [उत्पन्न] उत्पन्न, संजात, उद्भूत (भग, नाट) ।

उत्पत्त वि [दे] १ गलित । २ विरक्त (पड) ।

उत्पत्ति वि [उत्पत्ति] उत्पत्ति, प्रादुर्भाव (उव) ।

उत्पत्तिया स्त्री [उत्पत्तिकी] बुद्धि-विशेष,

विना शास्त्राभ्यासादि के ही होनेवाली बुद्धि, स्वाभाविक मति (ठा ४, ४, णाया १, १) । उत्पन्न देखो उत्पन्न (उवाः सुर २, १६०) । उत्पन्न सक [उत् + पत्] उठना, कूदना । उत्पन्न (महा) । बहु उत्पन्नत, उत्पन्नमाण (उप १८२ टीः णाया १, १६) । सङ्घ. उत्प-इत्ता (श्रीप) । क. उत्पन्नव्य (से ६, ७८) । हेक्क उत्पन्न (सुर ६, २२२) ।

उत्पन्न देखो उत्पन्न । बहु उत्पन्नत (से ५, ५६) ।

उत्पन्न पुं [उत्पात्] १ उत्पन्न, ऊँचे जाना, कूदना, उठाना । २ उत्पत्ति, 'भ्रवद्विए चले मदपडिवाउत्पयाई य' (विसे ५७७) । 'निवय पु [उत्पात्] १ ऊँचा-नीचा होना: 'खरपवणुदधुयसायतरतरंगवेगेहि हीरण नावा । गुरुकुल्लोलवसुद्धियतगरनियरेण धरियावि ॥ अणवरयतरगेहि उत्पन्ननिवय कुणतिया वहइ' (सुर १३, १६७) । २ नाट्य-विधि का एक प्रकार (जीव ३) ।

उत्पन्न न [उत्पन्न] ऊँचा जाना, उठाना (ठा १०, से ६, २४) ।

उत्पन्न न [उत्पन्न] जल को लाँघना, तैरना (से ५, ६०) ।

उत्पन्न स्त्री [उत्पत्ती] विद्या-विशेष (सूत्र २, २, २७) ।

उत्पत्ति (भ्रप) देखो उवरि (हे ४, ३३४, पिग) ।

उत्पत्तिवाडि, °डी स्त्री [उत्पत्तिवाडि, °टी] उलटा क्रम, विपर्यास, विपर्यय, 'उत्पत्तिवाडी-वहणे चाउम्मासा भवे लहणा' (गच्छ १) ।

उत्पत्तिपर भ्र [उत्पत्तिपरि] ऊपर-ऊपर (स १८०) ।

उत्पन्न न [उत्पन्न] १ कमल, पत्र (णाया १, १, भग) । २ विमान-विशेष; (सम ३८) । ३ सख्या-विशेष, 'उत्पन्न' को चौरासी लाख में गुणने पर जो संख्या लव्व हो वह (ठा २, ४) । ४ सुगन्धि द्रव्य-विशेष, 'परमुत्पन्नगधि' (ज ३) । ५ पुं. परिव्राजक-विशेष (भ्राचू १) । ६ द्वीप-विशेष । ७ समुद्र विशेष (पएण १५) । 'वेंटाग पु [उत्पन्न] भ्राजीविक मत का एक साधु-समाज (श्रीप) ।

उत्पन्न न [उत्पलङ्क] सख्या-विशेष, 'हुहय'

को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लव्व हो वह (ठा २, ४) ।

उत्पल स्त्री [उत्पला] १ एक इन्द्राणी, काल नामक पिराचेन्द्र की एक भ्रम-महिषी (ठा ४, १) । २ इस नाम का 'ज्ञाताधर्मकथा' का एक अर्थयन (णाया २, १) । ३ स्वनाम ख्यात एक भ्राविका (भग १२, १) । ४ एक पुष्करिणी (जीव ३) ।

उत्पल्लिणी स्त्री [उत्पल्लिणी] कमलिनी, कमल का गाछ या पौवा (पएण १) ।

उत्पल्ल वि [दे] अध्यासित, आरूढ (पड) ।

उत्पन्न सक [उत् + प्लु] १ लाँघना, पार करना तैरना । २ ऊँचा जाना, उठना । बहु. उत्पन्नत, उत्पन्नमाण (से ५, ६१, ८, ८६) ।

उत्पन्नइय वि [उत्पन्नजित] जिसने दोहा छोड़ दी हो वह, साधु होकर फिर गृहस्थ बना हुआ (स ४८५) ।

उत्पन्न पु [उत्पथ] उन्मार्ग, कुमार्ग; 'पथाउत्पन्नं निति' (निचू ३, से ४, २६, हेका २५६) । 'जाइ वि [उत्पथिन्] उलटे रास्ते जानेवाला, विपथ-गामी (ठा ४, ३) ।

उत्पन्न स्त्री देखो उत्पन्न = उत्पाद (ठा १—पत्र १९, ठा ५, ३—पत्र ३४६) ।

उत्पन्न वि [उत्पादिन्] उत्पन्न होनेवाला (विसे २८९) ।

उत्पन्नात्ता देखो उत्पन्न = उत् + पादय् ।

उत्पन्नात्तु वि [उत्पादित्तु] उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला (ठा ७) ।

उत्पन्नइय न [उत्पात्तिक] भूकंप आदि उत्पातों का सूचक शाल (सूत्र १, १२, ६) ।

उत्पन्नइय वि [उत्पादित] उत्पन्न किया हुआ, 'उत्पादयाविच्छिद्यणकोउहलत्ते' (राय) ।

उत्पन्नइय वि [उत्पात्तिक] १ अस्वाभाविक, कृत्रिम, 'उत्पादयपन्नयं व चकमंत' । २ आकस्मिक, अकस्मात् होनेवाला, 'उत्पादया वाही' (राज) । ३ न अनिष्ट-सूचक आकस्मिक उपद्रव, उत्पात, 'भो भो नावियपुरिसा सकन्नवारा समुज्जया होह । दीसइ कयंतवयण व भोममुत्पादयं जेण' (सुर १३, १८६) ।

उत्पन्नव्य } देखो उत्पन्न = उत् + पादय् ।  
उत्पन्नत }  
उत्पन्नात्तए }

उत्पाड सक [उन् + पाटय्] १ ऊपर उठाना। २ उखाडना, उन्मूलन करना। उत्पा-  
देह (परह १, १, स १५, काल)। कृ उत्पा-  
डणिल्ल (मुपा २४६)। सक उत्पाडिय  
(नाट)।

उत्पाड नक [उन् + पाटय्] उत्पन्न करना।  
संक्र उत्पाडिऊण (विसे ३३२ टी)।

उत्पाड पु [उत्पाट] उन्मूलन, उत्खनन,  
'नयणोप्पाडो' (उप १४६ टी; ६८६ टी)।

उत्पाडण न [उत्पाटन] १ उत्पादन, ऊपर  
उठाना। २ उन्मूलन उत्खनन (स २६६,  
राज)।

उत्पाडिय वि [उत्पाटित] १ ऊपर उठाना  
हुआ (पात्र, प्राह)। २ उन्मूलित (भ्राक)।

उत्पाडिय वि [उत्पाटित] उत्पन्न किया हुआ,  
'उत्पाडियणाराणा खदगमीसाण नेसि नमो'  
(भाव १३)।

उत्पाडय वि [उत्पाटक] उत्पन्न कर्ता (प्रयौ  
१७)।

उत्पाडीअमाण देखो उत्पाय = उत् + पादय्।

उत्पाय सक [उत् + पादय्] उत्पन्न करना,  
वनाना। उत्पाएहि (काल)। वक्र उत्पाएंत,  
उत्पायंत (सुर २, २२, ६, १३)। सक्र.  
उत्पाएत्ता (नग)। हेक उत्पाइत्ता, उत्पा-  
एउ, उत्पाएत्तए (राज, पि ४६५, राया  
१, ४)। कवक उत्पाडीअमाण (श्री)  
(नाट)।

उत्पाय पुन [उत्पात] १ उत्पत्तन, ऊर्ध्व-गमन,  
'न नग गलुमणा मिक्वति नहगणुप्पाय'  
(मुपा १८०)। २ आकस्मिक उपद्रव; 'पव-  
हण च पानइ ममुहमणे उत्पाएण छम्मासे  
भमत ताहे अणेण त उत्पाय उवसामिय'  
(महा)। ३ आकस्मिक उपद्रव का प्रतिपादक  
शास्त्र, निमित्त शास्त्र-विशेष (ठा ६, सम ४७;  
परह १, ४)। 'निवाय पुं [निपात] चटना  
श्रीर उत्तरना (स ४११)।

उत्पाय पु [उत्पाद] उत्पत्ति, प्रादुर्भाव (मुपा  
६, बुमा)। 'पव्वय पु [पर्वत] एक प्रकार  
के पर्वत, जहा आकर कई व्यन्तर-जातीय देव-  
देविया कीडा के लिए विचित्र प्रकार के शरीर  
चनाने हे (सम ३३, जीव ३)। 'पुव्व न

[पूर्व] प्रथमपूर्व, ग्रन्थाग-विशेष, बारहवें  
जैन अङ्ग-ग्रन्थ का एक भाग (सम २६)।

उत्पायग वि [उत्पादक] १ उत्पन्न करने-  
वाला। २ पु श्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष, कीट-  
विशेष (वच ८)।

उत्पायण न [उत्पादन] १ उत्पादन, उपाजंन  
(ठा ३, ४)। २ वि उत्पादक, उपाजंन (पउम  
३०, ४०)।

उत्पायणया } स्त्री [उत्पादना] १ उपाजंन,  
उत्पायणा } उत्पन्न करना। जैन साधु की  
मिना का एक दोष (श्रीव ७४६, ठा ३, ४;  
पिएउ १)।

उत्पायय वि [उत्पाटक] उत्पन्न-कर्ता (सुत्त  
२, २५)।

उत्पाल सक [वथ्] कहना, बोलना। उप्पा  
लड (हे ४, २)। उत्पालसु (कुमा)।

उत्पाव सक [उत् + प्लावय्] १ लंबाना,  
तैराना। २ कुवाना, उठाना। उत्पावेइ (हे  
२, १०६)। कवक उत्पियमाण (उवा)।

उत्पास नक [उत्प्र + अस्] हँसी करना।  
उत्पासिति (सुत्त १, १६)।

उत्पाहल न [दे] उल्लाह, उत्सुकता (पात्र)।

उत्पि सक [अर्पय्] देना। उप्पिउ (कप्प)।

उत्पि अ [उपरि] ऊपर, 'कहि ए भते। जोइ-  
सिआ देवा परिवसति ? गोयमा। उत्पि दीव-  
समुदाण इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए' (जीव  
३, राया १, ६, ठा ३, ४, श्रौप)।

उत्पिगलिआ स्त्री [दे] हाथ का मध्य भाग,  
करोत्सग (दे १, ११८)।

उत्पिजल न [दे] १ सुरत, सभोग। २ रज,  
धृती। ३ अर्पकृति, अर्पयश (दे १, १३५)।

उत्पिजल वि [उत्पिजल] अति-आकुल,  
व्याकुल (कप्प)।

उत्पिजल भक [उत्पिजलय्] आकुल को  
तरह आचरण करना। वक्र उत्पिजलमाण  
(कप्प)।

उत्पिच्छ [दे] देखो उत्पित्त, 'आहित्यं  
उत्पिच्छ च प्राचल रोसभरिय च', 'भीयं दुय-  
मुत्पिच्छमुतालं च कमसो मुण्येव्व' (जीव ३),  
'हत्थी अह तस्म सवइहत्तो पहाविओ आय-  
रुत्पिच्छो', 'रक्खसनेनपि आयरुत्पिच्छे' (पउम

८, १७५, १२, ८७), 'उत्पिच्छमथराईहि'  
(भत्त ११६)।

उत्पिण देखो उत्पण। वक्र उत्पिणित (मुपा  
११)।

उत्पित्त वि [दे] १ वस्त, भोत (दे १,  
१२६, से १०, ६१, न ५७४, पुफ ४४३,  
गउड), 'कि कायव्वविमुढा सरणविहूणा  
भ्युत्पित्वा' (सुर १२, १६०)। २ कुपित,  
क्रुड। ३ विधुर, आकुल (दे १, १२६,  
पात्र)।

उत्पित्त वि [दे] स्वास-युक्त (गीत) (राय  
७७ टी)।

उत्पिय सक [उन् + पा] १ आस्वादन  
करना। २ फिर-फिर स्वास लेना। वक्र.  
उत्पियत (परह १, ३—पत्र ५५, राज)।

उत्पिय वि [अर्पित] अर्पण किया हुआ  
(हे १, २६६)।

उत्पियण न [उत्पान] फिर-फिर स्वास लेना  
(राज)।

उत्पियमाण देखो उत्पाव।

उत्पिलण न [उत्सावन] लंबाना (पिड ४२२)।

उत्पिलाव देखो उत्पाव। उत्पिलावेइ। वक्र  
उत्पिलावत, 'जे मित्थू सरणं नाव उत्पि-  
लावेइ, उत्पिलावत वा साइज्जइ' (निचू १८)।

उत्पीड पु [दे उत्पीड] समूह, राशि (से ४,  
३७, ८, ३)।

उत्पीडण न [उत्पीडन] १ कस कर बाँवना।  
२ दवाना (से ८ ६७)।

उत्पील सक [उत् + पीडय्] १ कस कर  
बाँवना। २ उठवाना, 'सरण वा राव  
उत्पीलावेज्जा (आचा २, ३, १, ११)।  
उत्पीलवेज्जा (पि २४०)।

उत्पील पुं [दे] १ सघात, समूह (दे १,  
१२६, मुपा ६१; सुर ३, ११६, वज्जा ६०,  
पुफ ७३, वम्म १० टी), 'हुवासणो दहे  
सच्च जालुप्पीलो विरामए' (महा)। २  
म्यपुट, विपमोन्नत प्रदेश (दे १, १२६)।

उत्पीलण न [उत्पीडन] पीडा, उपद्रव  
(स २७०)।

उत्पीलिय वि [उत्पीडित] कस कर बाँवा  
हुआ, 'उत्पीलियाचिचपट्टाहियाउहपरणा' (परह  
१, ३, विपा १, २)।

उत्पुञ्ज वि [उत्पुञ्ज] उच्चलित, कूदा हुआ (मे ६, ४८, परह १, ३)।  
 उत्पुञ्जिअ देखो उत्पुञ्जिअ (से ६, ८५)।  
 उत्पुञ्जिअ वि [उत्पुञ्ज] सूप से साफ-सुधरा किया हुआ (पात्र)।  
 उत्पुञ्ज वि [उत्पुञ्ज] पूर्ण, व्याप्त (स २५)।  
 उत्पुञ्जिअ वि [उत्पुञ्जित] रोमान्चित (स २८१)।  
 उत्पुञ्जिअ वि [उत्पुञ्जित] वृत्त, प्रोञ्जित (से ६, ८५ गठ)।  
 उत्पुञ्ज पु [उत्पुञ्ज] १ प्राचुर्य ( परह १, ३)। २ प्रकृष्ट-प्रवाह (श्रौप)।  
 उत्पेक्ख (अप) देखो उच्चिविर। उत्पेक्ख (पिग)।  
 उत्पेक्ख सक [उत्पे + ईक्ष] सभावना करना, कल्पना करना। उत्पेक्खामि (स १४७)। उत्पेक्खेमि (स ३४६)।  
 उत्पेक्खी वी [उत्पेक्खी] १ अलकार-विशेष २ वितर्कणा, संभावना (गा ३३६)।  
 उत्पेक्खिअ वि [उत्पेक्खित] समावित, विकल्पित (दे १, १०६)।  
 उत्पेय न [दे] अम्रयग, तैलादि की मालिश, 'पुञ्ज च मंगलट्ठा उत्पेय जइ करेइ गिहियाण' (वव ६)।  
 उत्पेल सक [उद् + नमय्] ऊँचा करना, उन्नत करना। उत्पेलइ (हे ४, ३६)।  
 उत्पेलिअ वि [उत्पेलित] ऊँचा किया हुआ, उन्नत किया हुआ (कुमा)।  
 उत्पेल्ल पु [उत्पेल्ल] ऊँचा करना (पत्तम ८, २७२)।  
 उत्पेस पु [उत्पेस] श्रास, भय, डर (से १०, ६१)।  
 उत्पेहड वि [दे] उद्भट, आडम्बरवाला (दे १, ११६, पात्र; स ४४६)।  
 उत्पे देखो पुत्त (गा ६३६)।  
 उत्पेण सक [उत् + फण्] छांटना, पवन में धान्य आदि का छिलका हूर करना। उत्पेणति, भूका. उत्पेणिसु, भवि उत्पेणिससति (आचा २, १, ६, ४)।  
 उत्पेदोल वि [दे] चल, अस्थिर (दे १, १०२)।

उत्पेण पु [दे] चल, दुर्जन (दे १, ६०, पात्र)।  
 उत्पेण सक [उत् + पाटय्] १ ठाना। २ उखाडना। उत्पेणइ (हे २, १७४)।  
 उत्पेण सक [कथ्] कहना, बोलना। उत्पेणइ (हे २, १७४)।  
 उत्पेण वि [कथ्] कहनेवाला, सूचक (स ६४४)।  
 उत्पेणिअ वि [कथित] १ कथित। २ सूचित (पात्र, उप ७२८ टी; स ४७८)।  
 उत्पेण्ड अक [उत् + सिफट्] कुण्ठित होना, असमर्थ होना। उत्पेण्डइ, उत्पेण्डइ 'एमाइविणप्पणेहि वाहिज्जमाणो उत्पेण्ड(ण्)-इइ परसू' (महा)।  
 उत्पेण्ड अक [उत् + सिफट्] महुक की तरह कूदना, उडना। उत्पेण्डइ (उत् २७, ५)। वक्क उत्पेण्डत (पव २)।  
 उत्पेण्डण न [उत्पेण्डण] कुण्ठित होना (स ६६८)।  
 उत्पेण्डिअ वि [उत्पेण्डित] १ कुण्ठित। २ बाहर निकला हुआ, 'कथइ नक्कुक्क-त्तियसिप्पिपुडुत्पेण्डियमोत्तियाइल्लो' (सुर १३, २१३)।  
 उत्पेण्डिअ वी [दे] धोविन, कपडा धोनेवाली (दे १, ११४)।  
 उत्पेण्डिअ वि [दे] आस्तुत, विद्याया हुआ (दे १, ११३)।  
 उत्पेण्डण वि [दे] आपूर्णा, भरा हुआ, व्याप्त (दे १, ६२, सुर १, २३३, ३, २१५)।  
 उत्पेण्ड वि [दे] स्पष्ट, छुआ हुआ (पव १५८ टी)।  
 उत्पेण्ड वि [उत्पेण्ड] विकसित (पात्र; मे ६, ६६)।  
 उत्पेण्डिआ वी [उत्पेण्डिआ] क्रीडा विशेष, पाँव पर बैठ कर बारबार ऊँचा-नीचा होना, 'उत्पेण्डिआइ खेल्लत्त,  
 मा ए वारेहि होत्त परिज्जडा।  
 मा जहण्णमारुह्ण,  
 पुरिसाअतो किलिम्मिहिइ'  
 (गा १६६)।

उत्पेण्ड सक [उत् + स्पृश] सिंचना, छिड़कना। संकृ उत्पेण्डिअण (राज)।  
 उत्पेण्डणउत्पेण्डिअण क्रिदि [दे] क्रोध-युक्त प्रबल वचन से, 'उत्पेण्डणउत्पेण्डिअण सीहरायं एव वयामी' (विपा १, ६—पत्र ६०)।  
 उत्पेण्ड पुं [दे] १ श्रास, भय (दे १, ६४)। २ मुकुट, पगड़ी, शिरोवेष्टन, 'पच रायककुहा पण्णत्ता, तं जहा—सग्गं छत्तं उत्पेण्ड उवाहराज वालविण्णो' (ठा ५, १—पत्र ३०३, श्रौप, आचा २, ३, २, २)।  
 उत्पेण्डण न [दे] डराना, भयोत्पादन (सुख ३, १)।  
 उत्पेण्ड पु [दे] उद्गम, उदय (दे १, ६१)।  
 उदुस सक [मृज्] मार्जन करना, शुद्धि करना, साफ करना। उदुसइ (पड्)।  
 उच्चवध सक [उच्च + वन्ध्] १ फाँसी लगाना, फाँसी लगा कर मरना। २ वेष्टन करना। वक्क 'जलनिहितडम्मि दिट्ठा उच्चवधती इहप्पाण' (सुपा १६०)। सकृ उच्चवधिअ, उच्चवधिअण (नाट, पि २७०, स ३४६)।  
 उच्चवधण न [उच्चवधण] फाँसी लगाना, उल्लम्बन (परह २, ५)।  
 उच्चवण वि [उच्चवण] उल्लुट (पि २६६)।  
 उच्चवद्ध वि [उच्चवद्ध] १ जिसने फाँसी लगाई हो वह, फाँसी लगा कर मरा हुआ। २ वेष्टित, 'अग्रसंधायउच्चवद्धो' (सुर ८, ५७)। ३ शिक्षक के माय शर्तों से बँधा हुआ, शिक्षक के श्रायत्त (ठा ३),  
 'सिप्पाई सिक्खंतो,  
 सिक्खावेत्तस्स देइ जा सिक्खा।  
 गहियम्मि वि सिक्खम्मि,  
 जं चिरकाल तु उच्चवद्धो' (वृह)।  
 उच्चिव वि [दे] १ खिन्न, उद्विग्न। २ शून्य ३ क्रान्त। ४ प्रकट वेप वाला। ५ भीत, डरा हुआ। ६ उद्भट (दे १, १२७, वज्जा ६२)।  
 उच्चिवल वि [दे] कलुप जलवाला (दे १११ टी)।  
 उच्चिवल न [दे] कलुप जल, मैला पानी (दे १, १११)।  
 उच्चिविर वि [दे] खिन्न, उद्विग्न (कप्पु)।



उच्चुक्क सक [ उच् + चुक् ] बोलना, कहना।  
 उच्चुक्कट (हे ८, २)।  
 उच्चुक्क न [ उच् ] प्रलपित, प्रलाप। २  
 सकट। ३ वनात्कार (दे १, १२८)।  
 उच्चुड अक [ उच् + उड ] तैरना।  
 उच्चुड पु [ उच् + उड ] तैरना। °निचुड,  
 उच्चुडु °निचुडुण न [ निचुड, ण ]  
 उच्चुडुण करना (पएह १, ३, उप १२८ टी)।  
 उच्चुडु वि [ उच् + उडु ] उच्चुडुण, तोरण (गा  
 ३७, म ३६०)।  
 उच्चुडुण न [ उच् + उडुण ] उच्चुडुण (कप्पु)।  
 उच्चुडु अक [ उच् + उडु ] संशुच्य होना।  
 उच्चुडु (प्राक ७५)।  
 उच्चुव वि [ उच् ] श्रविक, ज्यादा। २ पुं  
 सघात, समूह। ३ म्यपुट, विपमोन्नत प्रदेश  
 (दे १, १२६)।  
 उच्चुम मक [ ऊर्ध्व्य ] ऊँचा करना, खडा  
 करना। उच्चुम ( वज्जा ६४ ), उच्चुमह  
 (महा)।  
 उच्चुम देखो उच्चुह (हे २, ५६, सुर २, ६,  
 पड)।  
 उच्चुमड पु [ उच् + उच्चुमड ] उच्चुमड भौड,  
 बहुष्मा, निर्लेज हडा, उप विदूषक,  
 'खरउत्ति कह जाणसि  
 देहागारा कहिति से हदि।  
 टिककोवण उच्चुमडो  
 शीयानि दारणसहावो।' (ठा ६ टी)।  
 २ न गाली, कुलित-वचन, 'उच्चुमडवयण—'  
 (मवि)।  
 उच्चुमत वि [ उच् ] ग्लान, वीमार (दे १, ६५,  
 महा)।  
 उच्चुमन्त वि [ उच् + उच्चुमन्त ] श्राकुल, व्याकुल,  
 विन् (दे १, १४३),  
 'भवलवह मा सकह ए इमा गहलधिआ  
 परिचमइ। अत्यक्कगज्जिउच्चुमतहित्यहिअआ  
 पडिअजाआ' (गा ३८६), 'भवममणुउच्चुमतमा-  
 णसा अन्हे' (सुर १५, १२३)। २ मूर्च्छित  
 (से १, ८)। ३ भ्रान्तियुक्त, भौचस्का, चकित  
 (हे २, १६४)।  
 उच्चुमत पुं [ उच् + उच्चुमन्त ] प्रथम नरक-पृथिवी  
 का चौथा नरकेन्द्रक—एक नरक-स्थान  
 (देवेन्द्र ३)।

उच्चुमग वि [ उच् ] गुरिठत व्याप्त, 'निमि-  
 रोवगगणिसा' (दे १, ६५, नाट)।  
 उच्चुमलि स्त्री [ उच् ] कोद्रव-समूह (राज)।  
 उच्चुमड वि [ उच् + उच्चुमड ] १ प्रबन्, प्रचण्ड,  
 'उच्चुमडपवरणपक पिरजयप्पडागाइ अडपयड'  
 (मुपा ४६), 'उच्चुमडकल्लोलमीमणारवे'  
 (गुमि ४)। २ भयकर, त्रिकराल (भग ७,  
 ६)। ३ उच्चुत, आडवरी (पात्र),  
 'अइरोसो अइतोसो अइहासो  
 दुनणोहि सवासो।  
 अइउच्चुमडो य वेमो पचवि  
 गख्यपि लहुअति।' (धम्म)।  
 उच्चुमस पु [ उच् + उच्चुमस ] १ उच्चुग २ परित्रमण  
 (नाट)।  
 उच्चुमय अक [ उच् + उच्चुमय ] उच्चुमय होना।  
 उच्चुमय (पि ४७५, नाट)। वक्क उच्चुमयत  
 (मुपा ५७१, ६५६)।  
 उच्चुमय अक [ ऊर्ध्व्य ] ऊँचा करना, खडा  
 करना।  
 उच्चुमय पु [ उच् + उच्चुमय ] उच्चुमय (विसे:  
 णाया १, २)।  
 उच्चुमविय वि [ ऊर्ध्व्य ] ऊँचा किया हुआ  
 (उप पृ १३०, वज्जा १४)।  
 उच्चुमय वि [ उच् ] ग्लान, ठंडा, (दे १, ६६)।  
 उच्चुमम मक [ उच् + उच्चुमम ] घुमाना।  
 उच्चुममइ (राय १२६)।  
 उच्चुमम पु [ उच् + उच्चुमम ] १ परित्रमण (ठा  
 ४)। २ वि परित्रमण करनेवाला (वव  
 १)।  
 उच्चुममडला स्त्री [ उच् + उच्चुममिणी ] स्वैरिणी,  
 कुलटा स्त्री (वव ४, वृह ६)।  
 उच्चुममय पु [ उच् + उच्चुममय ] जाँर, उपपति  
 (पिड ४२०)।  
 उच्चुममग पु [ उच् + उच्चुममग ] १ पारदारिक,  
 परस्त्री-लम्पट (श्रोष ६० भा)। २ वायु-विशेष,  
 जो तृण वगैरह को ऊपर ले उडता है (जी  
 ७)। ३ वि परित्रमण करनेवाला (वव १)।  
 उच्चुममिगा स्त्री [ उच् + उच्चुममिगा ] कुलटा  
 उच्चुममिया स्त्री, स्वैरिणी (वव ६, उप  
 पृ २६४)।  
 उच्चुमालण न [ उच् ] १ सूप आदि से साफ-  
 सुथरा करना, उत्पवन। २ वि अपूर्व, अद्वि-  
 तीय (दे, १, १०३)।

उच्चुमालिअ वि [ उच् ] सूप आदि से साफ किया  
 हुआ, उत्पूत, 'उच्चुमालिअ उच्चुमालिअ' (पात्र)।  
 उच्चुमय अक [ उच् ] स्त्रीवा करना, खेनना।  
 उच्चुमयइ (हे ४, १६८, पड)। वक्क उच्चुमा-  
 वन (कुमा)।  
 उच्चुमावणया स्त्री [ उच् + उच्चुमावणया ] १ प्रना-  
 उच्चुमावणया स्त्री, गौरव, उच्चुमति, 'पवयण  
 उच्चुमावणया' (ठा १०—पत्र ५१४)। २  
 उच्चुमति, वितर्कणा: 'असच्चुमावणयाहि'  
 (णाया १, १२—पत्र १७४)। ३ प्रकारान,  
 प्रयटीकरण (णदि)।  
 उच्चुमाविअ न [ उच् + उच्चुमाविअ ] नुरत, स्त्रीवा, समोण  
 (दे १, ११७)।  
 उच्चुमाम सक [ उच् + उच्चुमाम ] प्रका-  
 शित करना। वक्क उच्चुमामत, उच्चुमासेत  
 (पत्तम २८, ३६, ३, १५५)।  
 उच्चुमासिय वि [ उच् + उच्चुमासिय ] प्रकाशित  
 (हेका २८२),  
 'भवणामो नोहरंते जिरण्णि  
 चाउच्चुमहेहि देवेहि।  
 इतेहि य जतेहि य  
 कहमिव उच्चुमामिय गयण।' (मुपा ७७)।  
 उच्चुमासुअ वि [ उच् ] शोभाहीन (दे १,  
 ११०)।  
 उच्चुमासेत देखो उच्चुमास  
 उच्चुमि देखो उच्चुमिय = उच्चुमि (आचा)।  
 उच्चुमिउडि वि [ उच् + उच्चुमिउडि ] भौह चढाया  
 हुआ (गड)।  
 उच्चुमिज्जा स्त्री [ उच् + उच्चुमिज्जा ] भाजी, एक  
 तरह का शाक (पिड ६२४)।  
 उच्चुमिड सक [ उच् + उच्चुमिड ] १ ऊँचा करना,  
 खडा करना। २ विकसित करना। ३ अंकु-  
 रित करना। ४ खोलना। कर्म उच्चुमिज्जति।  
 वक्क उच्चुमिडमाण (आचा २, ७)।  
 क्वक्क 'भतिभरनिअरुच्चुमिज्जमाणयणपुल्य-  
 पूरियमरी' (मुपा ६५६ ६७, भग १६, ६)।  
 सक. उच्चुमिदिय, उच्चुमिदिउ (पंचा १३,  
 पि ५७४)।  
 उच्चुमिभग देखो उच्चुमिय = उच्चुमि (पएह १,  
 ४)।

उत्तिमहण ४ [उद्भेदन] लग कर अलग  
होना, आघात कर पीछे हटना,

जिसु चिय कुठिअइ,

रहमुत्तिमहणमुहलो महिहरेसु ।

तेसु चिय एगिमिज्जइ,

पहिरोहदोलिरो कुनिसो ॥

(गउड) ।

उत्तिमहण } वि [उद्भिन्न] १ अकुरित  
उत्तिमन्न } (प्रोष ११३), उत्तिमने पाणिय  
पडिय' (सुर ७, ११४) । २ उद्घाटित, खोला  
हुआ । ३ नैन माधुओ के लिए मित्रा का  
एक दोप, मिट्टी वगैरह से लिप्त पात्र को  
खोलकर उममे से दी जाती मित्रा, 'द्वगणाड-  
गोवउत्त उत्तिमिय ज तमुत्तिमएण' (पचा  
१३, ठा ३, ४) । ४ वि ऊँचा हुआ, खडा  
हुआ, 'हरिमवमुत्तिमन्नरोमचा' (महा) ।

उत्तिमय वि [उद्भिद्] धृती को फाडकर  
उगनेवाली वनस्पति (पएह १, ४) ।

उत्तिमय वि [ऊर्ध्वित] ऊँचा किया हुआ,  
खडा किया हुआ (सुपा ८६, महा, वज्जा  
८८) ।

उत्तिमय न [उद्भिद्] १ लवण-विशेष,  
समुद्र के किनारे पर क्षार जलके ससर्ग से होने-  
वाला नोन (आचा २, १ ६, ५) । २ पुन  
संजरीट, गलम आदि प्राणी (सवोष २०,  
धर्मस ७२, सूत्र १, ६, ८) ।

उत्तीमय वि [ऊर्ध्वीकृत] ऊँचा किया  
हुआ, 'उत्तीमयवाहुजुओ' (उप ५६७ टी) ।

उत्तुअ अक [उद् + भू] उत्पन्न होना ।  
उत्तुअइ (हे ४, ६०) ।

उत्तुआण वि [दे] १ उबलता हुआ, अग्नि  
से ताप हो दूब वगैरह उछलता है वह (दे  
१, १०५, ७, ८१) ।

उत्तुग वि [दे] चल, अस्थिर (दे १, १०२) ।

उत्तुत्त सक [उन् + त्तिप्] ऊँचा फेंकना ।  
उत्तुत्तइ (हे ४, १४४) ।

उत्तुत्तिअ वि [उत्तिप्] ऊँचा फेंका हुआ  
(कुमा) ।

उत्तुत्तिअ वि [दे] उहीपित, प्रदीपित (पात्र) ।

उत्तुअ वि [उद्भूत] १ उत्पन्न (सुर ३,  
२३६) । २ आगन्तुक कारण (विसे १४७६) ।

उत्तुअआ स्त्री [औद्भूतिकी] श्रीकृष्ण वासु-  
देव को एक भेरी जो किसी आगन्तुक प्रयो-  
जन के उपस्थित होने पर बजाई जाती थी  
(विसे १४७६) ।

उत्तुअ पुं [उद्भेद्] उद्गम, उत्पत्ति, 'उम्हा-  
अतगिरियडंसीमाणिव्वडियकंदलुउमेय' (गउड),  
'अभिएवजोव्वणउत्तुअमुन्दरा सयलमाणहरा-  
रावा' (सुर ११, ११६) ।

उत्तुअइम वि [उद्भेदिम] स्वय उत्पन्न होने-  
वाला, उम्मेइम पुण सयंरह जहा माधुइ  
लोण' (निचू ११) ।

उत्तु पु [उत्तु] उभय, दोनों (पच ६, ५८) ।

उत्तुओ अ [उत्तुयत्तु] द्विधा, दोनों तरह  
से, दोनों ओर से (उव, औप) ।

उत्तुआयण देखो ओमआयण (सुज्ज १०,  
१६) ।

उत्तुय वि [उत्तुय] युगल, दो, दोनों (ठा ४,  
४) । १°त्य अ [°त्र] दोनों जगह (सुपा  
६४८) । २°लेग पु [°लोक] यह और पर  
जन्म (पचा ११) । ३°हा अ [°था] दोनों  
तरफ से, द्विधा (मम्म ३८) ।

उत्तुअ सक [वञ्च्] ठगना, धूर्तना ।  
उत्तुअइ (हे ४, ६३) । वक्क उत्तुअत्त  
(कुमा) ।

उत्तुअ सक [अभ्या + गम्] सामने आना ।  
उत्तुअइ (पड) ।

उत्तु स्त्री [उत्तु] गौरी, पार्वती (पात्र) । २  
द्वितीय वासुदेव की माता (सम १५२) । ३  
देव-गणिका-विशेष (आचू) । ४ स्त्री-विशेष  
(कुमा) । ५°साड [°खाति] स्वनाम धन्य  
एक प्राचीन जैनाचार्य और विख्यात ग्रन्थकार  
(साधं ५०) ।

उत्तुण न [दे] प्रवेश (आचा २, १, ६) ।

उत्तुण देखो कुमार (अचु २६) ।

उत्तुसि वि [उत्तिम] मिश्रित, 'पल्लिसि-  
पल्लिपीवलकरणसुसणुमीसएहवणजल' (कुमा) ।

उत्तुय सक [उद् + मुच्] छोटना । वक्क  
उत्तुयत्त (उत्त ३०, २३) ।

उत्तुअइ वि [दे] १ मूढ, मूर्ख (दे १, १०२) ।  
२ उम्मत (गा ४६८, वज्जा ४२) ।

उत्तुअइ वि [उत्तुयत्तु] प्रभाशाली  
(गउड) ।

उत्तुअ पु [दे] १ हठ । वि उद्वृत्त (दे १,  
१२४) ।

उत्तुअथिय वि [दे] दग्ध, जला हुआ (वज्जा  
०२) ।

उत्तुअग वि [उत्तुअग] १ पानी के ऊपर आया  
हुआ, तीर्ण (राज) । २ न उम्मज्जन, तैरना,  
जल के ऊपर आना (आचा) । ३°जला स्त्री  
[°जला] नदी-विशेष, जिसमें पत्थर बगैरह  
भी तैर सकते हैं (जं ३) ।

उत्तुअग पु [उत्तुअग] १ कुपथ, उलटा रास्ता,  
विपरीत मार्ग (सुर १, २४३, सुपा ६५) ।  
२ छिद्र, रन्ध्र (आचा) ३ अकार्य करता  
(आचा) ।

उत्तुअगणा स्त्री [उत्तुअगणा] छिद्र, विवर  
(आचा) ।

उत्तुअअ न [दे] १ क्रोध, गुस्सा (दे १,  
१२५, से ११, १६, २०) । २ वि असवद्ध,  
३ प्रकारान्तर से कथित (दे १, १२५) ।

उत्तुअअर वि [उत्तुअर] १ इष्यांलु, द्वेषी  
(से ११, १४) । २ उद्दमट (गा १२७, ६७५) ।

उत्तुअअरि वि [दे] उद्दमट (दे १, ११६) ।

उत्तुअअरिअ वि [दे] १ रपित, रट, २  
आकुल, व्याकुल (दे १, १३७) ।

उत्तुअज न [उत्तुअज] तरण, तैरना ।  
°णिमज्जिया स्त्री [°निमज्जिका] उम्मुअ  
करना, पानी में ऊँचा-नीचा होना (ठा  
३, ४) ।

उत्तुअजग वि [उत्तुअजग] १ उम्मजन करने-  
वाला, गोता लगाने वाला । २ उम्मजन से  
ही स्नान करनेवाले तापसो की एक जाति  
(और, भग ११, ६) ।

उत्तुअइ स्त्री [दे] १ बलात्कार, जबरदस्ती  
(दे १, ६७) । २ निषेध, अस्वीकार (उप  
७२८ टी) ।

उत्तुअण वि [उत्तुअण] उक्कणित्त, उत्सुक  
(उप ५५८) ।

उत्तुअत्त पु [दे] १ घृतरा, वृक्ष-विशेष । २  
एरएड, वृक्ष-विशेष (दे १, ८६) ।

उत्तुअत्त वि [उत्तुअत्त] १ उद्धत, उन्माद-युक्त  
(वृह १) । २ पागल, भूताविष्ट (पिड ३८०) ।  
°जला स्त्री [°जला] नदी-विशेष (ठा २, ३) ।

उत्तुअत्तय न [दे] घटूरे का फल, "उत्तुअत्तय-

रत्ननिम्नो पिच्छह नन् विणा कण्य”  
(मोह २२)।

उम्मत्य सक [अभ्या + गम्] सामने  
घाना। उम्मत्य ( हे ४, १६५, कुमा)।

उम्मत्य वि [दे] श्रवो-मुख, विपरीत (दे १,  
६३)।

उम्मार पु [दे] देहली, द्वार के नीचे की लकड़ी  
( दे १, ६५)।

उम्मारिअ वि [दे] उल्लात, उम्मूलित (दे १,  
१००, पट्)।

उम्मल वि [दे] स्नान, कठिन, घट्ट (दे १,  
६१)।

उम्मलण न [उन्मर्त्तन] मनलना (पाश्र)।

उम्मल पु [दे] १ राजा, वृष। २ मेघ,  
वारिष। ३ बलात्कार। ४ वि पीवर, पृष्ट  
(दे १, १३१)।

उम्मल्ला स्त्री [दे] तुषणा (दे १, ६४)।

उम्महण वि [उन्मथन] नाशक, विनाशकारी  
(सुर ३, २३१)।

उम्माइअ वि [उन्मादित] उन्मत्त किया हुआ  
(पञ्च २४, १०)।

उम्माडिय न [दे] उल्लुक, जलता काष्ठ, गुन-  
राती मे 'उन्नाडु' (मिरि ६८०)।

उन्माण न [उन्मान] १ माप, माया आदि  
बुला मान (ठा २, ४)। २ जो तौला जाता  
हे वह (ठा १०)।

उन्माद देखो उन्माय (भग १४, २)।

उन्मादइत्तअ (श्री) वि [उन्मादयित्] उन्माद  
करानेवाला (अभि ४२)।

उन्माय श्रक [उद् + मद्] उन्माद करना,  
उन्मत्त होना। वहु उन्मायत (उप ६८६  
टी)।

उन्माय पुं [उन्माद्] १ चित्त-विभ्रम, पागल-  
पन (ठा ६, महा)। २ कामावीनता, विषय  
में श्रव्यन्तासक्ति (उत्त १६)। ३ श्रानिज्ञान  
(विने)।

उन्माल देखो ओमाल (पाश्र)।

उम्मालिय व [उन्मालित] नुशीनित (भवि)।

उम्माह पुं [उन्माथ] विनाश, 'निसेविज्जतावि  
(कामभोगा) करेति अहियणुम्माहय' (महा)।

उम्माहय वि [उन्माथक] विनाशक, 'अहो  
उम्माहयत्त विमयाणं' (महा; भवि)।

उम्माहि वि [उन्माथिन] विनाशक (महा-  
दि)।

उम्माहिय वि [उन्माथित] विनाशिन (भवि)।

उम्मि पुत्री [उर्मि] १ कल्लोन, तरंग (कुमा,  
दे ३ ६)। २ नीड, जन-समुदाय (भग २,  
१)। ३ मालिणी स्त्री [मालिनी] नदी-विशेष  
(ठा २, ३)।

उम्मिठ वि [दे] हस्तिपक-रहित, महावत-  
रहित, निरकुश। 'उम्मिठकरिवरो इव उम्मू-  
लइयसमूह सो' (सुपा ३४८, २०३)।

उम्मिण सक [उद् + मी] तीनना, नाप  
करना। कर्म उम्मिणजइ (श्रणु १०३)।

उम्मिय वि [उन्मित] प्रमित, 'कोडानोडि-  
जुग्मियावि विहियां हाहा विचित्ता गदी'  
(रमा)।

उम्मित्तिर वि [उन्मीलित्] विकामी, 'तत्य य  
उम्मित्तिरपढमपल्लवाद्यणियनयलमाहत्त'  
(सुपा ८६)।

उम्मित्त श्रक [उद् + मोल्] १ विकनित  
होना। २ खुलना। ३ प्रकाशित होना।

उम्मित्तइ (गठड)। वहु उम्मित्तइ (से १०,  
३१)।

उम्मित्त वि [उन्मील] १ विकसित (पाश्र,  
से १०, ५०, स ७६)। २ प्रकाशमान (से  
११, ६४; गठड)।

उम्मित्तण न [उन्मीलन] विकास, उल्लास  
(गठड)।

उम्मित्तिय वि [उन्मीलित्] १ विकसित,  
उल्लासित। २ उदाटित, खुला हुआ, 'तन्नो  
उम्मित्तियारिण तत्त नयणाणि' (आवम;  
स २८०)। ३ प्रकाशित। ४ वहिष्कृत;  
'पंजउम्मित्तियमणिकरणयूमियाणे' (जीव  
४)। ५ न विकास (श्रणु)।

उम्मित्त श्रक [उद् + मिप्] खुलना,  
विकसना। वहु उम्मित्तसत (विक्र ३४),  
उम्मित्तिय वि [उन्मित्तिय] १ विकसित,  
प्रफुल्ल (भग १४, १)। २ न. विकास,  
उन्मेष (जीव ३)।

उम्मित्तस देखो उम्मीस (पव ६७)।

उम्मीलण देखो उम्मित्तण (कुमा, गठड)।

उम्मीलणा स्त्री [उन्मीलना] प्रभव, उत्पत्ति  
(राज)।

उम्मीलिय देखो उम्मित्तिय (राज)।

उम्मीस वि [उन्मित्त] मिश्रित, युक्त (सुपा  
७८, प्रानू ३२)।

उम्मुअ देखो उमुय। वहु 'जणम्मि पीउसमि-  
वुम्मुअंतं चक्खु पमएणं सइ निक्खिउएजा'  
(उप पृ २०)।

उम्मुअ न [उल्लमुक्] श्रनात, लूका (पाश्र)।

उम्मुच सक [उद् + मुच्] परिव्याग  
करना। वहु उम्मुचत (विसे २७५०)।

उम्मुक् वि [उन्मुक्त] १ विमुक्त, रहित;  
'ते वीरा वंवाणुम्मक्का नावकखति जीविय'  
(सूम १, ६)। २ उल्लिप्त (श्रीप)। ३  
परिव्यक्त (आवम)।

उम्मुग्ग वि [उन्मग्ग] १ जल के ऊपर तैरा  
हुआ। २ न तैरा। ३ 'निमुग्गिया स्त्री  
[निमग्गता] उन्मुग्ग करना, 'से भिक्खू  
वा० उद्गसि पवमाणे नो उम्मुग्गनिमुग्गियं  
करेएजा' (आचा २, ३, २, ३)।

उम्मुग्गा } स्त्री. देखो उम्मग्गा = उम्मग्ग  
उन्मुग्गा } (पएह १, ३, पि १०४, २३४,  
आचा)।

उम्मुट्ट वि [उन्मुट्ट] स्पष्ट, हुआ हुआ  
(पाश्र)।

उम्मुट्टिय वि [उन्मुट्टित] १ विकसित,  
प्रफुल्ल (गठड, वप्पू)। २ उद्घाटित, खोला  
हुआ, 'उम्मुट्टियो समुग्गो, तम्मग्गो लहुस-  
मुग्गय नियड' (सुपा १४४)।

उन्मुयण न [उन्मोचन] परिव्याग, छोड़  
देना (सुर २, १६०)।

उन्मुयणा स्त्री [उन्मोचना] त्याग, उन्मत्त  
(आव ५)।

उन्मुह वि [दे] दम, श्रमिमानी (दे १,  
६६, पट्)।

उन्मुह वि [उन्मुह] १ संमुख (उप पृ  
१३४)। २ उन्म-मुख (से ६, ८२)।

उन्मुह वि [उन्मुह] विशेष मूढ, श्रव्यन्त  
मुख। 'विसुइया स्त्री [विसुच्चिका] रोग-  
विशेष, हैजा (सुपा १६)।

उन्मूल वि [उन्मूल] उन्मूलन करनेवाला,  
विनाशक (गा ३०५)।

उन्मूल सक [उद् + मूल्य] उल्लाहना,  
मूल से उल्लाह फेंकना। उन्मूलेइ (महा)।

वक्क उम्मूलन, उम्मूलयंत (मे १, ४, स ५६६)। संक. उम्मूलिऊण (महा)।

उम्मूलण न [उम्मूलन] उत्पादन, उत्खनन (पि २७८)।

उम्मूलणा स्त्री [उम्मूलना] ऊपर देखो (पएह १, १)।

उम्मूलिअ वि [उम्मूलिन] उत्पादित, मूल से उखाड़ा हुआ (गा ४७५, सुर ३, २४५)। उम्मेठ [दे] देखो उम्मेठ (पउम ७१, २६, स ३३२)।

उम्मेस पु [उम्मेप] उन्मीलन, विकास (भाग १३, ४)।

उम्मेयणी स्त्री [उम्मेयनी] विद्या-विशेष (सुर १३, ८१)।

उम्ह पुंस्त्री [ऊप्पम्] १ सताप, गरमी, उष्णता, 'शरीरउम्हाए जीवइ सयावि' (उप ५६७ टी, णाया १, १, कुमा)। २ भाफ, वाष्प (से २, ३२, हे २, ७४)।

उम्हइअ } वि [ऊप्पायित] सतप्त, गरम  
उम्हविय } किया हुआ (मे ४, १, पउम २, ६६, गउड)।

उम्हाअ अक [ऊप्पाय्] १ गरम होना। २ भाफ निकालना। वक्क उम्हाअत, उम्हाअमाण (मे ६, १०, पि ५५८)।

उम्हाल वि [ऊप्पवत्] १ गरम, परितप्त। २ वाष्प युक्त (गउड)।

उम्हाविअ न [दे] सुरत, समोग (दे १, ११७)।

उयचिय वि [दे] देखो उविअ = परिकर्मित; 'उयचियस्सोमदुयुल्लपट्टपडिच्छएणो' (णाया १, १—पय १३)।

उयट्ट देखो उव्वट्ट = उद् + वृत्। उयट्टंति, भूका उयट्टिसु (भाग)।

उयट्ट देखो उव्वट्ट = उद्धृत।

उयत्त अक [अप + वृत्] हटना। उयत्तति (दस ३, १ टी)।

उयर वि [उदार] श्रेष्ठ, उत्तम, 'देवा भवति विमलीयरकतिजुत्ता' (पउम १०, ८८)।

उयरिया स्त्री [अपवरिका] छोटा कमरा (मम्मत्त ११६)।

उयचिय देखो उविअ = (दे) (राय ६३ टी)।

उयाइय न [उपयाचित] मनौती (सुपा ८, ५७८)।

उयाय वि [उपयात] उपगत (राज)।

उयारण न [अवतारण] निछावर, उतारा, हर्ष-दान, गुजराती मे 'उवारणु' (कुप्र ६५)।

उयाहु देखो उदाहु (सुर १२, ५६, काल-विसे १६१०)।

उय्यकिअ वि [दे] इकट्टा किया हुआ (पड्)।

उय्यल वि [दे] अव्यासित, आरूढ (पड्)।

उर पुंन [उरस्] वक्ष स्थल, छाती (हे १, ३२)। अ, ग पुंस्त्री [ग] सर्प, सांप (काप्र १७१),

'उरगगिरिजलणसागरनह-तलतरुणएसमो अ जो होइ। भमरमियघरणिजलरुहरविपव-एसमो अ सो समणो' (अणु)।

उतव पु [उतपस्] तप-विशेष (ठा ४)।

उथ न [उत्त्र] अस्त्र-विशेष, जिसके फेंकने से शत्रु सर्पों से वेष्टित होता है (पउम ७१, ६६)। उपरिसप्प पुस्त्री [उपरिसर्प] पेट से चलनेवाला प्राणी (सर्पदि) (जो २०)।

उत्तिया स्त्री [उत्तिका] मोतियों की हार (राज)।

उर न [दे] आरम्भ, प्रारम्भ (दे १, ८६)।

उरउरेण अ [दे] साक्षात् (विपा १, ३)।

उरत्त वि [दे] खरिडत, विदारित (दे १, ६०)।

उरत्थ वि [उरस्थ] १ छाती में स्थित। २ छाती में पहनने का आभूषण (आचा २, १३, १)।

उरत्थय न [दे] वर्म, वस्त्र, कवच (पाअ)।

उरउभ पत्नी [उरअ] मेप, भेड़ (णाया १, १, पएह १, १)।

उरउभिअ वि [औरभिअ] भेड़ चरानेवाला (सूअ २, २, २८)।

उरउभिअ } वि [उरभ्रीय] १ मेप-सम्बन्धी।  
उरउभिअ } २ उत्तराव्ययन सूत्र का एक अव्ययन, 'तत्तो समुद्धियमेय उरउभिअज्जंति अज्जकयण' (उत्तनि, राज)।

उरय पु [उरज] वनस्पति-विशेष (राज)।

उररि पृं [दे] पशु, बकरा (दे १, ८८)।

उरल देखो उराल (कम्म १, भाग ६ २२)।

उरविय वि [दे] १ आरोपित। २ खरिडत, छिन्न (पड्)।

उरसिज पुं [उरसिज] स्तन, धन (धर्मवि ६६)।

उरस्स वि [उरस्य] १ सन्तान, वच्चा (ठा १०)। २ हादिक, आभ्यन्तर 'उरस्सवल-समएणागय' (राय)।

उराल वि [उदार] १ प्रबल (राय)। २ प्रधान, मुख्य (सुज्ज १)। ३ सुन्दर, श्रेष्ठ (सूअ १, ६)। ४ अद्भुत (चन्द २०)। ५ विशाल, विस्तीर्ण (ठा ५)। ६ न शरीर-विशेष, मनुष्य और तिर्यक् (पशु पक्षी) इन दोनों का शरीर (अणु)।

उराल वि [उदार] स्थूल, मोटा (सूअ १, १, ४, ६)।

उराल वि [दे] भयकर, भीष्म (सुज्ज १)।

उरालिय न [औदारिक] शरीर-विशेष (सण)।

उरिआ स्त्री [उड्डिका] लिपि-विशेष (सम ३५)।

उरितिय न [दे] उरसि-त्रिक] तीन सर-वाला हार (श्रौप)।

उरिस देखो पुरिस (गा २८२)।

उरु वि [उरु] विशाल, विस्तीर्ण (पाअ)।

उरुपुल्ल पु [दे] १ अपूप, पूआ। २ खिचड़ी (दे १, १३४)।

उरुमल्ल }  
उरुमिल्ल } वि [दे] प्रेरित (पड्, दे १, १०८)।  
उरुसोल्ल }

उरुरुह पु [उरुरुह] स्तन, धन (पव ६२)।

उरुरुह न [उरुरुह] १ स्तन, धन। २ जैन साध्वियों का उपकरण-विशेष (श्रोध ३१७ भा)।

उल देखो कुल (से १, २६, गा ११६, सुर ३, ४१, महा)।

उलय } पुंन [उलय] तृण-विशेष (सुपा  
उलय } २८१, प्राप्र)।

उलवी स्त्री [उलपी] तृण-विशेष, 'उलवी वीरण' (पाअ)।

उलिअ वि [दे] असकुचित नजरवाला, स्फार हटि (दे १, ८८)।

उलित्त न [दे] ऊंचा कुंआ (दे १, ८६)।

उलीण देखो कुलीण (गा २५३)।

उलुउडिअ वि [दे] प्रमुठित, विरेचित (दे १, ११६) ।

उलुओमिअ वि [दे] रोमाञ्चित, पुलकित (पड्) ।

उलुकमिअ वि [दे] ऊपर देखो (दे १, ११५) ।

उलुपड पु [दे] उन्मुक, अगाध, लूका (दे १, १०७) ।

उलुग पु [उलूक] १ उल्लू, पेचक । २ देश-विशेष (पउम ६८, ६९) ।

उलुग पु [उलूक] उल्लू, षूक, पेचक (वर्मसं ६३१, १२६५) ।

उलुगी स्त्री [आल्की] विद्या विशेष (विने २४५४) ।

उलुग्ग वि [अपूरुग्ग] बीमार (महा) ।

उलुग्ग वि [दे] देखो ओलुग्ग (महा) ।

उलुकुटिअ वि [दे] १ विनिपातित, विना-गिन । २ प्रगान्त (दे १, १३८) ।

उलुय देखो उलूअ, 'अह कह दिगमणियेय, उजुयाणं हरइ अवत्त' (सट्ठि १०८, मुर १, २६, पउम ६७, २४) ।

उलुहत पु [दे] काक, कौआ (दे १, १०६) ।

उलुहलिअ वि [दे] अतृप्त, तृप्तिरहित (दे १, ११७) ।

उलुहुलअ वि [दे] अतृप्त, तृप्तिरहित (पड्) ।

उलूअ पु [उलूक] १ उल्लू, पेचक (पाप्र) । २ वैशेषिक मत का प्रवर्तक कणाद मुनि (नम्म १४६, विसे २५०८) ।

उलूअल देखो उऊअल (कुमा) ।

उलूनु पु [उलूनु] महगल व्वनि (रंमा) ।

उलूहल देखो उऊखल (हे १, १७१, महा) ।

उलू वि [आट्ट] गीला, आट्ट (कुमा, हे १, ८२) । गच्छ पु [गच्छ] जैन मुनियों का गण-विशेष (कप्प) ।

उलू सक [आट्टय्] १ गीला करना, आट्ट करना । २ अक आट्ट होना । उल्लेइ (हे १, ८२) । वक, उल्लत, उल्लित (गउड) । सक उल्लेत्ता (महा) ।

उलू न [दे] ऋण, कर्जा, 'तो म उल्ले धरिण' (सुपा ४८६) ।

उलूअण न [उलूअण] अर्पण, समर्पण (सि ११, ५१) ।

उलूकं पुं [उलूक] काष्ठ-मय वारक (निव्व १२) ।

उलूव सक [उन् + उलूव्] उल्लवण करना, अतिक्रमण करना । उल्लवण (पि ४५६) ।

हेक उलूघित्तए (मग ८, ३०) ।

उलूघ पु [उलूह] उल्लवण, अतिक्रमण (सवोष ६) ।

उलूघण न [उलूहण] १ अतिक्रमण, उल्लवण (पण्ण ३६) । २ वि अतिक्रमण करनेवाला, 'उल्लघणे य चंडे य पावमणो नि वुच्चइ' (उत्त ८) ।

उलूठ वि [उलूठ] उद्धत, 'जपति उल्लठ-वयणाइ' (काल) ।

उलूडग पु [उलूडक] छोटा मृदग, वाय-विशेष (राज) ।

उलूडिअ वि [दे] वहिष्कृत, बाहर निकाला हुआ (पाप्र) ।

उलूवण न [उलूवण] उद्धवण, फाँसी लगा कर लटकना (सम १२५) ।

उलूक वि [दे] १ भान, हुआ हुआ । २ म्त्व, 'उल्लकं सिराजाल' (स २६८) ।

उलूट्ट देखो उल्लट्ट = उद्धट्ट । उल्लट्टइ (प्राक ७२) ।

उलूट्ट वि [दे] उल्लुठित, खाली किया हुआ (दे ७, ८१) ।

उलूट्टिय देखो उलूट्ट—(दे), 'सो पूण नरो पविट्ठो नट्ठो सत्ताउ त महाअडवि । उल्लट्टिय-कूवोदगमिव कठणएहि पारोहि' (धर्मवि १२४) ।

उलूण वि [उलूण] उल्लक (पचा २) ।

उलूण न [आट्टीकरण] गीला करना (उवा श्रोष ३६, से २, ८) ।

उलूण न [दे] वाय वस्तु-विशेष, शोनामन (पिड ६२४) ।

उलूणिया स्त्री [आट्टेयिका] जल पोछने का गमछा, टोपिया (उवा) ।

उलूहिय वि [दे] नाराक्रान्त, जिसपर बोझा लादा गया हो वह, 'अह तम्मि सत्यलोए उल्लहियसयलवसहनियरम्मि' (सुर २, २) ।

उलूअण न [दे] कौडियो वा भामूण (दे १, ११०) ।

उलूअक [उन् + उलू] १ चलित होना, चञ्चल होना । २ ऊँचा चलना । ३ उत्पन्न होना । उल्लनइ (मे ११, १३) । वक, उल्लन (काल) ।

उलूअिअ वि [उलूअिअ] १ चञ्चल (गा ५६६) । २ उत्पन्न (वे ६, ६८) ।

उलूअिअ वि [दे] शिथिल, ढीला (दे १, १०८) ।

उलूअ सक [उन् + लप्] १ कहना । २ बताना, वकवाद करना, खराब शब्द बोलना; 'ज वा त वा उल्लवइ' (महा) । वक उल्लवत, उल्लवेमाण (पउम ६४, ८, मुर १, १६६) ।

उलूअ नक [उद् + लू] उल्लन करना । सट्ट, उल्लविकुण । हेक उल्लविउ । क, उल्लविअव्व (प्राक ६६) ।

उलूअण न [उलूअण] १ वकवाद २ कथन, 'जइवि न जुजइ जह तह मणवल्लहनामउल्ल-वण' (सुपा ८६८) ।

उलूअिय वि [उलूअिय] १ कथित, उक्त । २ न उक्ति, कथन, 'अणपच्चगसज्जाए चात्तल्लविय-पेहण' (उत्त) ।

उलूअिर वि [उलूअिय] १ वक्ता, भाषक । २ वकवादी, वाचाट (गा १७२ सुपा २२६) ।

उलूअ अक [उन् + लस्] १ विकसित होना । २ मृग होना । उल्लसइ (पड्) । वक उल्लमत (गा ५६०, कप्प) ।

उलूअ देखो उल्लस (गउड) ।

उलूअिसिअ वि [उलूअिसिअ] १ विकसित । २ हृषित (पड्, निव्व) ।

उलूअिसिअ वि [दे उल्लसिअ] पुलकित, रोमाञ्चित (दे १, ११५) ।

उलूअय वि [दे] लात मारना, पाद-प्रहार (तट्टु) ।

उलूअय वि [उल्लाप] १ वक्र वचन । २ कथन (मग) ।

उलूअल सक [उत् + नमय्] १ ऊँचा करना । २ ऊपर फेंकना । उल्लालइ (हे ८, ३६) । वक उल्लालेमाण (अंत २१) ।

उलूअल सक [उन् + लालय्] ताडन करना, बजाना । वक उल्लालेमाण (राज) ।

उल्लाल पुंन [उल्लाल] छन्द-विशेष (पिंग) ।  
 उल्लालिअ वि [उन्नमित] २ ऊँचा किया  
 हुआ, ऊपर फँका हुआ (कुमा, हे ४,  
 ४२२) ।  
 उल्लालिय वि [उल्लालित] ताडित (राज) ।  
 उल्लाव सक [उत् + लप्, लापय्] १  
 कहना, बोलना । २ वकवाद करना । ३  
 बुलवाना । ४ वकवाद कराना । वक्तु  
 उल्लावत, उल्लावित्त (से ११, १०, गा  
 ५३६, ६५१, हे २, १६३) ।  
 उल्लाव पु [उल्लाव] १ शब्द, आवाज (ने  
 १, ३०) । २ उत्तर, जवाब (श्लोच ५६ भा,  
 गा ५१४) । ३ वकवाद, विकृत वचन । ४  
 उक्ति, वचन (पउम ७०, ५८) । ५ समापण,  
 'नयणेहि को न वीसइ,  
 केण समाण न होति उल्लावा ।  
 हिययाणद जं पुण,  
 जणेइ त माणुस विरल ॥' (महा) ।  
 उल्लाविअ वि [उल्लपित] १ उक्त, कथित ।  
 २ न उक्ति, वचन (गा ५८६) ।  
 उल्लाविर वि [उल्लपित्त] १ बोलनेवाला,  
 भाषक (हे २, १६३, सुपा २२६) ।  
 उल्लासग वि [उल्लासक] १ विवसित होने-  
 वाला । २ शानन्दजनक (आ २७) ।  
 उल्लासण न [उल्लासन] विकाम (सिदि  
 ५३६) ।  
 उल्लासि } वि [उल्लासिन्] ऊपर देखो  
 उल्लासिर } (कम्पू; लहुअ १, प्रासू ६६) ।  
 उल्लाह सक [उत् + लाघय्] कम करना,  
 हीन करना । वक्तु उल्लाहअत (उत्तर  
 ६१) ।  
 उल्लिअ वि [दे] उपसर्पित, उपागत  
 (पड्) ।  
 उल्लिअ वि [आद्रित] गीला किया हुआ  
 (गउड, हे ३, १६) ।  
 उल्लिअ वि [दे] १ चीरा हुआ, फाटा हुआ  
 (उत्त १६, ६४) । २ उपालब्ध, उलाहना  
 दिया हुआ (सम्मत्त ५२) ।  
 उल्लिच सक [उद् + रिच्] खाली करना ।  
 हेक्क 'उल्लिचिऊण य समत्थो हत्यउडेहि  
 समुदद' (पुफ्क ४०) ।  
 उल्लिचिय वि [दे] उद्रिक्त, खाली किया  
 हुआ,

'तह नाहिदहो जुव्वराघणेण  
 लायन्नवारिणा भरिओ ।  
 नहु निट्ठइ जह उल्लिचिओवि  
 पियनयणकलसेहि' (सुपा ३३) ।  
 उल्लिक्क न [दे] दुरचेष्टित, खराब चेष्टा  
 (पड्) ।  
 उल्लिगण वि [उल्लिङ्गन] उपदर्शक (पव  
 १) ।  
 उल्लिपण न [उपलेपन] उपलेप (पिड  
 ३५०) ।  
 उल्लिया स्त्री [दे] राधा-श्रेय का निशाना,  
 'विधेयव्वा विवरीयममतद्वचक्कोवरिथिउल्लिया'  
 (स १६२) ।  
 उल्लिर वि [आर्द्र] गीला (वज्जा ११२) ।  
 उल्लिह सक [उद् + लिह्] १ चाटना ।  
 २ खाना, भक्षण करना, 'उक्खलिउरिहमुररी  
 उअ रोरघरम्मि उल्लिहइ' (दे १, ८८) ।  
 उल्लिह सक [उद् + लिख्] १ रेखा  
 करना २ लिखना । ३ घिसना ।  
 उल्लिहण न [उल्लेखन] १ घर्षण (सुपा  
 ४८) । २ विलेखन, 'वहुआइ नहुल्लिहणे'  
 (हे १, ७) ।  
 उल्लिहिय वि [उल्लिरित] १ घृष्ट, घिसा  
 हुआ (गाया १, २) । २ छिला हुआ,  
 तक्षित (पाअ) । ३ रेखा किया हुआ (सुपा  
 १६३, प्रासू ७) ।  
 उल्ली स्त्री [दे] १ चूल्हा (दे १, ८७) । २  
 दाँत का मैल, 'उल्ली वेत्तेसु दुग्गवा' (महा) ।  
 उल्लीण वि [उपलीन] प्रच्छन्न, गुप्त  
 (प्राचा २, २, ३, ११) ।  
 उल्लुअ वि [दे] १ पुरस्कृत, आगे किया  
 हुआ । २ रक्त, रंगा हुआ (पड्) ।  
 उल्लुअ वि [दे] उद्भूत उदय-प्राप्त (प्राक्क  
 ७७) ।  
 उल्लुअ वि [उल्लून] १ उन्मूलित । २ न  
 उन्मूलन (प्राक्क ७०) ।  
 उल्लुचिअ वि [उल्लुच्चित] उखाड़ा हुआ,  
 उन्मूलित, 'मुट्ठीहि कुतलकलावा उल्लुचिया'  
 (सुपा ८०, प्रवो ६८) ।  
 उल्लुटिअ वि [दे] संवृणित, टुकड़ा-टुकड़ा  
 किया हुआ (दे १, १०९) ।

उल्लुठ वि [उल्लुण्ठ] उल्लठ, उद्भूत (सुपा  
 ५६५, सुर ६, २१५) ।  
 उल्लुड अक [वि + रेचय्] झरना,  
 टपकना, बाहर निकलना । उल्लुडइ (हे ४,  
 २६) । प्रयो वक्तु उल्लुडावत (कुमा) ।  
 उल्लुक्क वि [दे] श्रुतित, दृष्टा हुआ (दे १,  
 ६२) ।  
 उल्लुक्क सक [तुड्] तोडना । उल्लुक्कइ  
 (हे १, ११६, पड्) ।  
 उल्लुक्किअ वि [तुडित] श्रोतित, तोडा  
 हुआ (कुमा) ।  
 उल्लुगा } स्त्री [उल्लुका] १ नदी-विशेष  
 उल्लुगा } (विसे २४२६) । २ उल्लुका नदी  
 के किनारे का प्रदेश (विसे २४२५) । तीर  
 न [तीर] उल्लुका नदी के किनारे बसा  
 हुआ एक नगर (विसे २४२४; भग २६, ३) ।  
 उल्लुज्झण न [दे] पुनस्त्यान, कटे हुए हाथ  
 पाँव की फिर से उत्पत्ति (उप ३८१) ।  
 उल्लुट्ट अक [उत् + लुट्] नष्ट होना,  
 ध्वंस पाना । वक्तु 'तहवि य सा रायसिरी  
 उल्लुट्टती न ताइया ताहि' (उव) ।  
 उल्लुट्ट वि [दे] मिथ्या, असत्य, झूठा (दे १,  
 ८६) ।  
 उल्लुरुइ पु [दे] छोटा शह (दे १, १०५) ।  
 उल्लुलिअ वि [उल्लुलिन] चलित (गा  
 ५६७) ।  
 उल्लुव देखो उल्लव = उद् + ल् । उल्लुवइ,  
 संकृ उल्लुविकण (प्राक्क ६६) ।  
 उल्लुह अक [निस् + सृ] निकला । उल्लुहइ  
 (हे ४, २५६) ।  
 उल्लुहुडिअ वि [दे] उन्नत, उच्चित (पड्) ।  
 उल्लुह वि [दे] १ आरूढ (दे १, १००,  
 पड्) । २ अड्-कुरित (दे १, १००, पाअ) ।  
 उल्लुह सक [आ + रुह्] चढना ।  
 उल्लुहइ (प्राक्क ७३) ।  
 उल्लूर सक [तुड] १ तोडना । २ नाश  
 करना । उल्लूरइ (हे ४, ११६, कुमा) ।  
 उल्लूरण न [तोडन] छेदन, खरडन (गा  
 १६६) ।  
 उल्लूरिअ वि [तुडित] विनाशित, 'उल्लूरिअ-  
 पहिअसत्थेसु' (गामि १०, पाअ) ।  
 उल्लुह वि [दे] शुष्क, सूखा, 'उल्लुहं च  
 नलवण हरिय जाय' (श्लोच ४४६ टी) ।

उल्लेत्ता देवो उल्ल = श्राद्धं ।  
 उल्लेव पु [दे] हाप्य, हँसी (दे १, १०२) ।  
 उल्लेवड वि [दे] लम्पट, लुच्य (दे १, १०४, पात्र) ।  
 उल्लेव्य न [दे] १ पोतना, भीत को रूना वगेरह से संकेद करना (श्रीप) । २ वि पोता हूमा (शाया १, १, मम १३७) ।  
 उल्लोक वि [दे] युक्ति, छिन्न (पड) ।  
 उल्लोच पु [दे उल्लोच] चन्द्रातप, चांदनी (दे १, २८, मुर १२, १, उन १०७) ।  
 उल्लोठ सक [उल्लोत्रय] लोघ्न आदि से घिसना । उल्लाडिज्ज (आचा २, १३, १) ।  
 उल्लोय पु [उल्लोक] १ अगामी, छत्र (शाया १, १, कप्य, भग) । २ थोड़ी देर, थोडा विलम्ब (राज) ।  
 उल्लोय देवो उल्लोच (मुर ३, ७०, कुमा) ।  
 उल्लोल अक [उन् + लुल्] लुठना, लेटना ।  
 वक उल्लोलन (निचू १७) । पु शोकाकुल स्त्री-रदन शब्द (चठ० सगरचरिय) ।  
 उल्लोल सक [उद् + लोल्य] पोठना ।  
 उल्लोनेह, सक उल्लोलेत्ता (आचा २, १५, ५) ।  
 उल्लोल पु [दे] १ शत्रु, दुश्मन (दे १, ६६) ।  
 २ कोलाहल (पठम १६, ३६) ।  
 उल्लोल पुं [उल्लोल] १ प्रवन्व, 'उद्देशे घ्राति एराहिवाण वियडा कहुहूला' (गड) ।  
 २ वि उद्मट, उद्धत, 'तरणजणविष्ममुल्लोल-सापरे' (स ६७) । ३ वि अनुक, 'बहुमो घडतविहडतसइमुहासायसगमुल्लोले । हियए च्चेय नमपपति चचला वीहवावारा' (गड) ।  
 उल्लोव (अप) देवो उल्लोच (भवि) ।  
 उल्लव सक [वि + ध्माप्य] ठहा करना, आग को बुझाना । उल्लवइ (हे ४, ४१६) ।  
 उल्लविय वि [दे. विध्मापित] बुझाया हुआ, शान्त किया हुआ (पठम २, ६६) ।  
 उल्लविसअ वि [दे] उद्मट, उद्धत, (दे १, ११६) ।  
 उल्ला अक [वि + ध्मा] बुझ जाना । उल्लाइ (स २८३) ।  
 उव अ [उप] निम्न लिखित अर्थों का सूचक अव्यय—१ समीपता, 'उवदसिय' (पएण १) । २ सदृशता, तुल्यता (उत्त ३) ।

३ समन्तपन (राय) । ४ एकवार । ५ भीतर (आव ४) ।  
 उव न [उठ] पानी, जल, 'पाव्वदाड च एहाणुवदाइ च' (शाया १, ७—पत्र ११७) ।  
 उवअठ वि [उपकण्ठ] समीप का, आसन्न (गड) ।  
 उवइठ वि [उपटिष्ठ] कथित, प्रतिपादित, शिक्षित (श्रीष १४ मा. पि १७३) ।  
 उवइण वि [उपवीर्ण] सेवित (ग ३६) ।  
 उवइय वि [उपचित] १ मामल, गुष्ट (पएह १, ४) । २ उल्लत (आप) ।  
 उवइय पुत्री [द] श्रीद्वय जीव-विशेष, देवों ओवइय (जीव १ टी. पएण) ।  
 उवइस नक [उप + दिष्] १ उदेश देना, मिथाना । २ प्रतिपादन करना । उवइसइ (पि १८४) । उवइसति (भग) ।  
 उवउंज सक [उप + युज्] उपयोग करना । कर्म उवउज्जति (विमे ४८०) । सक उवउज्जिऊण, उवउज्ज (पि ५८५, निचू १) ।  
 उवउज्ज पु [दे] १ उपकार (दे १, १८८) । २ वि उपकारक (पह) ।  
 उवउत्त वि [उपयुक्त] १ न्याय्य, वाजवी । २ सावधान, अप्रमत्त (उव, उप ७७३) ।  
 उवऊठ वि [उपगूह] आलिङ्गित (पात्र, ने १, ३८, गा १३३) ।  
 उवऊह सक [उप + गूह] आलिङ्गन करना । उवऊहइ (प्राक ७४) ।  
 उवऊहण न [उपगूहन] आलिङ्गन (मे ५, ४८) ।  
 उवऊहिअ वि [उपगूहित] आलिङ्गित (गा ६२१) ।  
 उवएइआ स्त्री [दे] शराव परोमने का पाव (दे १, ११८) ।  
 उवएस पुं [उपदेश] १ शिक्षा, बोध (उव) । २ कथन, प्रतिपादन । ३ शास्त्र, सिद्धान्त (आचा. विसे ८६४) । ४ उपदेश्य, जिसके विषय में उपदेश दिया जाय वह (धर्म १) ।  
 उवएसग वि [उपदेशक] उपदेश देनेवाला, 'हिच्चारण पुव्वसजोगं, सिया किच्चोवएसग' (सूत्र १, १) ।  
 उवएसण न [उपदेशन] देवो उवएस (उत्त २८, ठा ७, विसे २५८३) ।

उवएसणया } स्त्री [उपदेशना] उपदेश  
 उपएसणा } (राज, विसे २५८३) ।  
 उवणमिय वि [उपदेशित] उपदिष्ट, 'सामा-उपगिज्जुत्ति वोच्च उवएसियं गुणजणेण' (विसे १०८०, सण) ।  
 उवओग पुं [उपयोग] १ ज्ञान, चैतन्य (पएण १२, ठा ४, ४, व ४) । २ न्याय, ध्यान, सावधानी, 'त पुण उविग्गेण उवओगजुएण तिग्गसद्धाए' (पचा ४) । ३ प्रयोजन, आवश्यकता (गुपा ६४३) ।  
 उवओगि वि [उपयोगिन] उपयुक्त, योग्य, प्रयोजनीय, 'पत्ताइए विमुद्धि माहेउ गिएइए नमुवओगि' (गुपा ६४३, स ५) ।  
 उवंग पुन [उपाङ्ग] १ छोटा अवयव, क्षुद्र भाग, 'एवमादी सव्वे उवगा नएएति' (निचू १) । २ ग्रन्थ-विशेष, मूल-ग्रन्थ के अश-त्रिणोप को लेकर उसका विस्तार ने वर्णन करने-वाला ग्रन्थ, टीका, संगोत्रगाण सरहसंसाण चउरह वेयाण' (श्रीप) । ३ 'श्रीपपातिव' मूय वगेरह वाहर जैन ग्रन्थ (कप्य, ज, १, सूक्त ७०) ।  
 उवजग न [उपाज्जन] मुज्जण, मालिश (पएह २, १) ।  
 उवकउ देवो उवअठ (भवि) ।  
 उपकठ न [उपकण्ठ] समीप (सिरि ११२१) ।  
 उवकडुअ (शौ) अ [उपकृत्य] उपकार करके (प्राक ८८) ।  
 उवकप्प सक [उप + कल्] १ उपन्वित करना । २ करना, 'उवकप्पइ कण्डे उवगोह वा होति एकट्ठा' (पचमा) । उवकप्पति (सूत्र १, ११) ।  
 उवकप्प पु [उपकल्प] नाधु को दी जाने-वाली भिक्षा, अन्नपात वगेरह (पचमा) ।  
 उवकय वि [उपकृत] जिसपर उपकार किया गया हो वह, अनुगूहीत, 'अणुवकय-राणुगहपरायणा' (आव ४) ।  
 उवकय वि [दे] उच्चित, प्रणुण, तैयार (दे १, ११६) ।  
 उवकर देवो उवयर = उप + कृ । उवकरउ (उवा) ।  
 उवकर सक [अव + कृ] व्याप्त करना । नूका 'अहवा पणुणा उवकरिनु' (आचा १, ६, ३, ११) ।

उवकरण देखो उवगरण (श्रीप) ।  
 उवकस सक [उप + कप्] प्राप्त होना,  
 'नारीण वसपुवकसति' (सूत्र १, ४) ।  
 उवकसिअ वि [दे] १ संनिहित । २ परिसे-  
 वित । ३ सजित उवादित (दि १, १३८) ।  
 उवकार देखो उवगार (धर्मस ६२० टी) ।  
 उवकारिया देखो उवगारिया (राव ८२) ।  
 उवकिड } ली [उपकृति] उपकार (दि ४,  
 उवकिदि } ३४; ८, ४५) ।  
 उवकुल न [उपकुल] नसत्र-विरोप, श्रवण  
 आदि वारह (ज ७) ।  
 उवकुल पुन [उपकुल] कुल नसत्र के पास  
 का नसत्र (मुज्ज १०, ५) ।  
 उवकोसा ली [उपकोशा] एक गणिका,  
 कोशा वेर्या की छोटी वहिन (कुप्र ४५३) ।  
 उवकोसा ली [उपकोशा] एक प्रसिद्ध वेर्या  
 (उव) ।  
 उवकंत वि [उपक्रान्त] १ नमीप मे आनीत ।  
 २ प्रारव्व, प्रस्तावित (विसे ६८७) ।  
 उवकम सक [उप + क्रम्] १ शुरू करना,  
 प्रारम्भ करना । २ प्राप्त करना । ३ जानना ।  
 ४ समीप में लाना । ५ संस्कार करना ।  
 ६ अनुसरण करना: 'सीत्तां तुल्लो भाव  
 जमुवक्कमए' (विसे ६२९), 'ता तुम्मे ताव  
 श्रवक्कमह लद्ध, जाव एयासि भावमुव-  
 क्कमामि ति' (महा), 'जेणोवक्कामि  
 ज्जइ उमीवमारिणज्जए' (विसे २०३६),  
 'जएणं हलकुलिआर्डीहि खेताड उवक्कमिज्जति  
 से त खेतोवक्कमे' (अणु) । वहु उवक्कमत  
 (विसे ३४१८) ।  
 उवक्कम पुं [उपक्रम] १ आरम्भ, प्रारम्भ ।  
 २ प्राप्ति का प्रयत्न, 'सोच्चा भगवाणुमासएणं  
 सच्चे तत्य करेज्जुवक्कम' (सूत्र १, २,  
 ३, १४) । ३ कर्मों के फल का अनुभव  
 (सूत्र १, ३, भग १, ४) । ४ कर्मों की  
 परिणति का कारण-भूत जीव का प्रयत्न-  
 विनेप (ठा ४, २) । ५ मरण, मौत, विनाश,  
 'हुज्ज इमम्मि समए उवक्कमो जीवियम्म जइ  
 मज्ज' (आउ १५, वृह ४) । ६ दूरस्थित  
 को समीप में लाना: 'मत्यस्त्योवक्कमए  
 उवक्कमो तेण तम्मि अ तमो वा सत्यसमी-  
 वोवरण' (विसे, अणु) । ७ आयुष्य विधातक

वस्तु (ठा ४, २, स २८७) । ८ शत्रु,  
 हथियार, 'भुम्माहारच्छेए उवक्कमेण च  
 परिणए' (धर्म २) । ९ उपचार (स २०५) ।  
 १० ज्ञान, निश्चय । ११ अनुवर्तन, अनुकूल-  
 प्रवृत्ति (विसे ६२६, ६३०) । १२ संस्कार,  
 परिकर्म, 'खेतोवक्कमे' (अणु) ।  
 उवक्कम पुं [उपक्रम] अनुदित कर्मों को  
 उदय में लाना (सूत्र ४७) ।  
 उवक्कमण न [उपक्रमण] उपर देखो (अणु,  
 उवर ४६, विसे ६११, ६१७, ६२१) ।  
 उवक्कमिय वि [औपक्रमिक] उपक्रम से  
 सम्बन्ध रखनेवाला (ठा २, ४, सम १४५,  
 परएण ३५) ।  
 उवक्काम देखो उवक्कम = उप + क्रम् । कर्म.  
 उवक्कामिज्जइ (विसे २०३६) ।  
 उवक्काम सक [उप + क्रम्] दीर्घकाल में  
 भोगने योग्य कर्मों को श्रवण समय मे ही  
 भोगना । कर्म उवक्कामिज्जइ (धर्मस  
 ६४८) ।  
 उवक्कामण न [उपक्रमण] उपक्रम कारना  
 (श्रावक १६७) ।  
 उवक्कामण देखो उवक्कमण (विसे २०५०) ।  
 उवक्कसे पुं [उपक्लेश] १ वाघा । २ शोक  
 (राज) ।  
 उवक्खड सक [उप + स्कु] १ पकाना,  
 रसोई करना । १ पाक को मसाले से  
 संस्कारित करना । उवक्खडेइ, उवक्खडिति  
 (पि ५५६) । सक उवक्खडेत्ता (आचा) ।  
 प्रयो. उवक्खडावेइ, उवक्खडाविति (पि ५५६,  
 कप्प) । संक उवक्खडावेत्ता (पि ५५६) ।  
 उवक्खड } वि [उपस्कृत] १ पकाया  
 उवक्खडिय } हुआ । २ मसाला वगैरह से  
 संस्कार-युक्त पकाया हुआ (निचू ८, पि ३०६,  
 ५५६, उत १२, ११) । ३ पुन रसोई,  
 पाक, 'भणियामहाणसएरा जह अज्ज उव-  
 क्खडो न कायव्वो' (उप ३५६ टी, ठा ४, २,  
 एया १, ८, श्रोष ५४ भा) । १म वि  
 [१म] पकाने पर भी जो कच्चा रह जाता  
 है वह, मूंग वगैरह अन्न विरोप, 'उवक्खडाम  
 एणम जहा चएयादीण उवक्खडियाए जे ए  
 सिज्जति ते कंकडुयाम उवक्खडियाम भएणइ'  
 (निचू १५) ।

उवक्खर पुं [उपस्कर] १ संस्कार । २ जिससे  
 संस्कार किया जाय वह (ठा ४, २) ।  
 उवक्खर पु [उपस्कर] घर का उपकरण,  
 साधन (सूत्र ५) ।  
 उवक्खरण न [उपस्करण] ऊपर देखो ।  
 ०साला ली [०शाला] रसोई-घर, पाक-  
 गृह (निचू ६) ।  
 उवक्खा सक [उपा + ख्या] कहना । कर्म  
 उवक्खाइज्जति (सूत्र २, ४, १०, भग १६,  
 ३—पत्र ७६२) ।  
 उवक्खा ली [उपाख्या] उपनाम (धर्मस  
 ७२७) ।  
 उवक्खाइत्तु वि [उपख्यापयित्तु] प्रसिद्धि  
 करानेवाला: 'अत्ताए उवक्खाइत्ता भवइ'  
 (सूत्र २, २, २६) ।  
 उवक्खाइया ली [उपाख्यायिका] उपकथा,  
 भवान्तर कथा (सम ११६) ।  
 उवक्खाण न [उपाख्यान] उपाख्यान,  
 कथा (पउम ३३, १४६) ।  
 उवक्खित्त वि [उपक्षिप्त] प्रारव्व, शुरु किया  
 हुआ (मुद्रा ९३) ।  
 उवक्खित्त सक [उप + क्षिप्] १ स्थापन  
 करना । २ प्रयत्न करना । ३ प्रारम्भ करना ।  
 उवक्खित्त (पि ३१६) ।  
 उवक्खीण वि [उपक्षीण] क्षय-प्राप्त (धर्मवि  
 ४२) ।  
 उवक्खेअ पु [उपक्षेप] १ प्रयत्न, उद्योग ।  
 २ उपाय, 'ए भएणमि तस्सिं साहणिज्जे  
 किदो उवक्खेमो' (मा ३६) ।  
 उवक्खेव पु [दे उपक्षेप] बालोत्पादन,  
 मुएडन (तदु १७) ।  
 उवग वि [उपग] १ अनुसरण करनेवाला  
 (उप २४३, श्रीप) । २ समीप में जानेवाला  
 (विसे २५६५) ।  
 उवगच्छ सक [उप + गम्] १ समीप में  
 आना । २ प्राप्त करना । ३ जानना । ४  
 स्वीकार करना । उवगच्छइ (उव, स २३७) ।  
 उवगच्छति (पि ५८२) । संक उवगच्छि-  
 ऊण (स ४४) ।  
 उवगणिय वि [उपगणित] गिना हुआ,  
 संख्यात, परिगणित (स ४६१) ।  
 उवगपिय वि [उपकल्पित] विरचित (स  
 ७२१)



उवगमं देखो उवगच्छ । संक उवगम्म  
(विने ३१६६) । हेक उवगतुं (निचू १६) ।

उवगय वि [उपगत] १ पास आया हुआ  
(से १, १६, गा ३२१) । २ ज्ञात, जाना  
हुआ (मम ८८, उप पृ ५६, साधं १४४) ।  
३ युक्त, सहित (राय) । ४ प्राप्त (भग) ।  
५ प्रकर्म-प्राप्त (सम्म १) । ६ स्वीकृत,  
'अजम्पवदमूला, अएणेहि वि उवगया  
किरिया' (उवर ५५) । ७ अन्तभूत, अन्तर्गत;  
'ज च महाकम्पुय,

जाणि अनेसाणि छेअनुत्ताणि ।

चर्याकरणाणुओगो नि

कानियत्वे उवगयारिण'

(विसे १२६५) ।

उवगय वि [उपकृत] जिसपर उपकार किया  
गया हो वह (स २०१) ।

उवगर नक [उप + कृ] हित करना । उव-  
गन्मि (स २०६) ।

उवगरण न [उपकरण] १ मावन, नामगो,  
सावक वस्तु (शोध ६६६) । २ वाह्य इन्द्रिय-  
विशेष (विसे १६४) ।

उवगरिय न [उपकृत] उपकार (कुप्र ४५) ।

उवगस नक [उप + कम्] समीप आना,  
पान आना । सक उवगसित्ता (सूअ १,  
४) । वक

'उवगसत भपित्ता, पठिनोमाहि वगुहि ।

भोगभोगे विचारै, महामोह पकुव्वइ'

(मम ५०) ।

उवगा सक [उप + गै] वर्णन करना, श्लाघा  
करना, गुणान करना । कवक उवगाइज्ज-  
माण, उवगिज्जमाण, उवगीयमाण (राय,  
भग ६, ३३, स ६३) ।

उवगार देखो उवयार = उपकार (सुर २,  
४३) ।

उवगारग वि [उपकारक] उपकार करने-  
वाला (स ३२१) ।

उवगारि वि [उपकारिन] ऊपर देखो (सुर  
७, १६७) ।

उवगारिया छी [उपकारिका] प्रासाद आदि  
की पीठिका (राय ८१) ।

उवगिअ न [उपकृत] १ उपकार । २ वि

जिसपर उपकार किया गया हो वह (स  
६३६) ।

उवगिज्जमाण देखो उवगा ।

उवगिण्ह नक [उप + ग्रह] १ उपकार  
करना । २ पुष्टि करना । ३ ग्रहण करना ।  
उवगिण्हह (पि ५१२) ।

उवगीय वि [उपगीत] १ वर्णित, श्लाघित ।  
२ न संगीत, गीत, गान, 'वाइयमुवगीय  
नट्टमवि मुय दिट्ठ चिट्ठमुत्तिकर' (साधं  
१०८) ।

उवगीयमाण देखो उवगा ।

उवगूह वि [उपगूह] १ आलिङ्गित (गा  
३५१, स ४४८) । २ न आलिंगन (राज) ।

उवगूह सक [उप + गुह] १ आलिंगन  
करना । २ गुप्त रीति से रक्षण करना ।  
३ रचना करना, बनाना । कवक उवगूहि-  
ज्जमाण (राया १, १, शीप) ।

उवगूहण न [उपगूहन] १ आलिंगन । २  
प्रच्छन्न रक्षण । ३ रचना, निर्माण, 'आन्ह-  
णणट्टणेहि बालयउवगूहणेहि च' (तटु) ।

उवगूहिय वि [उपगूह] आलिंगित (आवम) ।

उवगूहिय न [उपगूहित] गाढ आलिंगन  
(पव १६६) ।

उवगग न [उपाग] १ अन्न के समीप । २  
आपाठ मात्र, 'एसो चिय कालो पुणरेव  
गण उवगगम्मि' (वव १) ।

उवगगह पु [उपग्रह] १ पुष्टि, पोषण (विने  
१८५०) । २ उपकार (उप ५६७ टी, स  
१५४) । ३ ग्रहण, उत्पादन (शोध २१२  
भा) । ४ उपवि, उपकरण, सावन (शोध  
६६६) ।

उवगगह पु [उपग्रह] सामीप्य-सम्बन्ध (धर्मसं  
३६३) ।

उवगगहग वि [उपग्राहक] उपकार-कारक  
(कुलक २३) ।

उवगगहिअ न [उपगृहीत] उपकार (तटु  
५०) ।

उवगगहिअ वि [उपगृहित] १ उपस्थापित  
(पण २३) । २ आलिंगनादि चेट्ट, 'उवह-  
सिएहि उवगगहिएहि उवसद्वेहि' (तटु) । ३  
उपकृत (स १५६) । ४ उपपृम्मित (राज) ।

उवगगहिअ देखो ओवगगहिअ (पंचव) ।

उवगगहि वि [उपग्राहिन] सम्बन्धी, सम्बन्ध  
रखनेवाला (स ५२) ।

उवगवाय पुं [उपोद्घात] ग्रन्थ के आरम्भ  
का वक्तव्य, भूमिका (विसे ६६२) ।

उवघायग वि [उपघातक] विनाशक (धर्म-  
सं ५१२) ।

उवघाड वि [उपघातिन] उपघात करने-  
वाला (भाम ८७, विने २००८) ।

उवघाडय वि [उपघातिक] १ उपघात-  
कारक (विने २००६) । २ हिंसा से सम्बन्ध  
रखनेवाला, 'भूमोवघाडए' (श्रीप) ।

उवघाय पुं [उपघात] १ विरायना, आवात  
(शोध ७८८) । २ अशुद्धता (ठा ५) । ३  
विनाश (कम्म १, ५४) । ४ उपद्रव (तटु) ।  
५ दूसरे का अशुभ चिन्तन (भास ५१) ।

°नाम न [°नामन] कर्म-विशेष, जिनके  
उदय में जीव अपने ही शरीर के पडजीभ,  
चोरदत, रसीली आदि अवयवों से क्लेश  
पाता है वह कर्म (सम ६७) ।

उवघायण न [उपघातन] ऊपर देखो  
(विसे २२३) ।

उवचय पु [उपचय] १ वृद्धि (भग ६, ३) ।  
२ समूह (पिड २, शोध ४०७) । ३ शरीर  
(आव ५) । ४ इन्द्रिय-पर्याप्ति (पण १५) ।

उवचयण न [उपचयन] १ वृद्धि । २  
परिपोषण, पुष्टि (राज) ।

उवचर सक [उप + चर] १ सेवा करना ।  
२ समीप में धूमना-फिरना । ३ आरोप  
करना । ४ समीप में खाना । ५ उपद्रव  
करना । उवचरइ, उवचरए, उवचरामो  
उवचरति (वृह १, पि ३४६, ४५५,  
आवा) ।

उवचर सक [उप + चर] व्यवहार करना ।  
उवचरति (पिडमा ६) ।

उवचरय वि [उपचरक] १ सेवा के लिए  
में दूसरे के अहित करने का मौका देखने-  
वाला (सूअ २, २, २८) । २ पुं जासूस,  
चर (आवा २, ३, १, ५) ।

उवचरिय वि [उपचरित] कल्पित (धर्मसं  
२४५) ।

उवचरिय वि [उपचरित] १ उपासित,  
सेवित, बहुमानित (स ३०) । २ न उपचार,  
सेवा (पचा ६) ।

उवचि सक [उप + चि] १ इकट्टा करना ।  
२ पुष्ट करना । उवचिणाइ, उवचिणाइ; उव-  
चिणति । भूका उवचिणिसु । भवि उवचि-  
णिस्रति (ठा २, ४, भग) । कर्म उवचि-  
ज्जइ, उवचिज्जति (भग) ।

उवचिट्ठ सक [उप + स्था] उपस्थित होना,  
समीप आना । उवचिट्ठे, उवचिट्ठेज्जा  
(पि ४६२) ।

उवचिणिय देखो उवचिय (वर्मनि १०६) ।

उवचिय वि [उपचित] १ पुष्ट, पीन  
(परह १, ४, कप्प) । २ स्थापित, निवेशित  
(कप्प, परण २) । ३ उन्नति (श्रीप) । ४ व्याप्त  
(अणु) । ५ वृद्ध, बढा हुआ (आचा) ।

उवञ्जया स्त्री [उपत्यका] पर्वत के पास की  
नीची जमीन (ती ११) ।

उवच्छदिद (श्री) वि [उपच्छन्दित]   
अभ्ययित (अभि १७३) ।

उवजगल वि [दे] दीर्घ, लम्बा (दे १,  
११६) ।

उवजा अक [उप + जन्] उत्पन्न होना ।  
उवजायइ (विसे ३०२९) ।

उवजाइ स्त्री [उपजाति] छन्द-विशेष (पिंग) ।  
उवजाइय देखो उवयाइय (थाद १६, सुपा  
३५४) ।

उवजाय वि [उपजात] उत्पन्न (सुपा ६००) ।

उवजीव सक [उप + जीव्] आश्रय लेना ।  
उवजीवइ (महा) ।

उवजीवग वि [उपजीवक] आश्रित (सुपा  
११६) ।

उवजीवि वि [उपजीविन्] १ आश्रय लेने-  
वाला, 'न करेइ नेय पुच्छइ निद्धम्मा लिग-  
मुवजीवी' (उव) । २ उपकारक (विसे  
२८८६) ।

उवजोइय वि [उपज्योतिष्क] १ अग्नि के  
समीप में रहनेवाला । २ पाक स्थान में स्थित,  
'के इत्य खत्ता उवजोइया वा अज्जावया वा  
मह खडिण्हि' (उत्त १२, १८) ।

उवज्ज अक [उत् + पद्] उत्पन्न होना ।  
उवज्जति (सूत्र १, १, ३, १६) ।

उवज्जण न [उपार्जन] पैदा करना, कमाना  
(सुर ८, १४४) ।

उवज्जिण सक [उप + अर्ज] उपार्जन  
करना । उवज्जिणेमि (स ४४३) ।

उवज्जमय } पु [उपाध्याय] १ अयापक,  
उवज्जमाय } पढानेवाला, (पउम ३६, ६०,  
पह) । २ सूत्राध्यापक जैन मुनि को दी जाती  
एक पदवी (विसे) ।

उवज्जिमय वि [दे] आकारित, बुलाया हुआ  
(राज) ।

उवज्जमाय देखो उवज्जमाय (निरि ७७) ।

उवट्टण देखो उव्वट्टण (राज)

उवट्टणा देवो उव्वट्टणा (भग, विसे २५१५  
टी) ।

उवट्ट वि [उपस्थ] एक स्थान में सतत अव-  
स्थित (वव ४) । °काल पु [°काल] आने  
की बेला, अम्यागम समय (वव ४) ।

उवट्टंभ पु [उपट्टंभ] १ अवस्थान (भग) ।  
२ अनुकम्पा, कल्याण (ठा २) ।

उवट्टप्प वि [उपस्थाप्य] १ उपस्थित करने  
योग्य । २ व्रत—दीक्षा के योग्य, 'वियत्त-  
किच्चे सेहे य उवट्टप्पा य आहिया' (वृह ६) ।

उवट्टव सक [उप + स्थापय्] युक्ति से  
सम्स्थापित करना । उवट्टवति (सूत्र २, १  
२७) ।

उवट्टव सक [उप + स्थापय्] १ उपस्थित  
करना । २ व्रतों का आरोपण करना, दीक्षा  
देना । उवट्टवेइ, उवट्टवेह (महा; उवा) ।  
हेइ उवट्टवेत्तए (वृह ४) ।

उवट्टवणा स्त्री [उपस्थापना] १ चारित्र्य-  
विशेष, एक प्रकार की जैन दीक्षा (वर्म २) ।  
२ शिष्य में व्रत की स्थापना, 'वयट्टवणमु  
'वट्टवणा' (पंचमा) ।

उवट्टवणीय वि [उपस्थापनीय] देखो  
'उपट्टप्प' (ठा ३) ।

उवट्टा सक [उप + स्था] उपस्थित होना ।  
उवट्टाएजा (भग) ।

उवट्टाण न [उपस्थान] १ बैठना, उपवेशन  
(राया १, १) । २ व्रत-स्थापन (महानि ७) ।  
३ एक ही स्थान में विशेष काल तक रहना  
(वव ४) । °दोस पु [°दोप] नित्यवास  
दोप (वव ४) । °साला स्त्री [°शाला]  
आस्थान-भण्डप, सभा-स्थान (राया १, १,  
निर १, १) ।

उवट्टाण न [उपस्थान] अनुष्ठान, आचार  
(सूत्र १, १, ३, १४) ।

उवट्टाणा स्त्री [उपस्थाना] जिसमें जैन साधु-  
लोग एक वार ठहर कर फिर भी शास्त्र-  
निषिद्ध-अवधि के पहले ही आकर ठहरे वह  
स्थान (वव ४) ।

उवट्टाव देखो उवट्टव । उवट्टावेहि (पि  
४६८) । हेइ उवट्टावित्तए, उवट्टावेत्तए  
(ठा) ।

उवट्टावणा देखो उवट्टवणा (वृह ६) ।

उवट्टिय वि [उपस्थित] १ प्राप्त, 'जरावाद-  
मुवट्टिओ' (उत्त १२) २ समीप-स्थित (आव  
१०) । ३ तैय्यार, उद्यत (वर्म ३) । ४  
आश्रित, निम्नतमुवट्टिओ' (आउ, सूत्र १,  
२) । ५ मुमुक्षु, प्रव्रज्या लेने की तैय्यार;  
'उवट्टिय पडिरय, सजय सुतवस्मिय ।

बुक्कम्म धम्माओ भसेइ, महामोह पकुव्वइ'  
(सम ५१) ।

उवठावणा देखो उवट्टवणा (पचा १७, ३०) ।

उवडडिण्णु वि [उपदहिरु] जलानेवाला,  
'अणिकाएण कायमुवडडिण्णु भवइ' (सूत्र  
२, २) ।

उवडडिअ वि [दे] अवगत, नमा हुआ (पह) ।

उवणगर न [उपनगर] उपपुर, शाखा-नगर  
(श्रीप) ।

उवणञ्च सक [उप + नर्त्तय्] नचाना,  
नाच कराना । कवक उवणञ्चिज्जमाण  
(श्रीप) ।

उवणद्ध वि [उपनद्ध] घटित (उत्तर ६१) ।

उवणम सक [उप + नम्] १ उपस्थित  
करना, ला रखना । २ प्राप्त करना । उव-  
णमइ (महा) । वक उवणमत (उप १३६  
टी, सूत्र १, २) ।

उवणमिय वि [उपनमित] उपस्थापित  
(मण) ।

उवणय वि [उपनत] उपस्थित (से १, ३६) ।

उवणय पु [उपनय] १ उपसहार, दृष्टान्त के  
अर्थ को प्रकृत में जोड़ना, हेतु का पक्ष में  
उपसहार (पव ६, श्रीप ४४ भा) । २  
स्तुति, श्लाघा (विसे १४०३ टी, पव १४०) ।  
३ अवान्तर नय (राज) । ४ सस्कार-विशेष,  
उपनयन (स २७२) ।

उवणय पु [उपनय] यज्ञोपवीत सस्कार, उपहार, भेंट (राय १२७)।

उवणयण न [उपनयन] १ उपसहार (वव १)। २ उपस्थापन (पिंड ४४१)।

उवणयण न [उपनयन] उपवीत-सस्कार, यज्ञ-मृग धारण सस्कार (परह १, २)।

उवणिअ देखो उवणीय (से ४, ५५)।

उवणिक्खित्त वि [उपनिक्षिप्त] व्यवस्थापित (आचा २)।

उवणिक्खेव पु [उपनिक्षेप] धरोहर, रक्षा के लिए दूसरे के पास रखा वन (वव ८)।

उवणिग्गम पु [उपनिर्गम] १ द्वार, दरवाजा (ने १२, ६८)। २ उपवन, बगीचा (गउड)।

उवणिग्गय वि [उपनिर्गत] समीप में निकला हुआ (श्रीप)।

उवणिज्जन देखो उवणी।

उवणिमत सक [उपनि + मन्त्रय] निमन्त्रण देना। भवि उवणिमतेहिति (श्रीप)। सक उवणिमतिऊण (स २०)।

उवणिमतण न [उपनिमन्त्रण] निमन्त्रण (भग ८, ६)।

उवणिवाय पु [उपनिपात] मन्त्रव्य (वमंस ४५८)।

उवणिविट्ठ वि [उपनिविष्ट] समीप-स्थित (राय)।

उवणिसथा स्त्री [उपनिपत्] वेदान्त-शास्त्र, वेदान्त-रहस्य ब्रह्म-विद्या (अच्छु ८)।

उवणिहा स्त्री [उपनिवा] मार्गण, मार्गणा (पचस)।

उवणिहि पुत्री [उपनिधि] १ समीप में आनीत, धरोहर (ठा ८)। २ विरचना, निर्माण (अणु)।

उवणिहि पुत्री [उपनिधि] उपस्थापन, अमानत (अणु ५२)।

उवणिहिअ वि [औपनिधिक] १ उपनिविसम्बन्धी। ०आ स्त्री [०ई] क्रम-विशेष (अणु ८२)।

उवणिहिय वि [उपनिहित] १ समीप में स्थापित। २ आसन्न-स्थित (सूत्र २, २)।

०य पुं [०क] नियम-विशेष को धारण करने-वाला मिथु (सूत्र २, २)।

उवणी सक [उप + नी] १ समीप में लाना, उपस्थित करना। २ अर्पण करना। ३ इकट्ठा करना। उवणीत्ति (उवा), उवणेमो। भवि उवणेहिइ (पि ४५५, ४७४, ५२१)। कवक उवणिज्जन (से ११, ५३)। संकृ 'से भिक्खुणो उवणेत्ता अणेणे' (सूम २, ६, १)।

उवणीअ न [उपनीत] उपनयन (अणु २१७)। ०वयण न [०वचन] प्रशंसा-वचन (आचा २, ४, १, १)।

उवणीय वि [उपनीत] १ समीप में लाया हुआ (पाम, महा)। २ अर्पित, उपढीकित (श्रीप)। ३ उपनययुक्त, उपसहन (विने ६६६ टी, अणु)। ४ प्रशन्त, श्लाघित (आचा २)। ०चरय पु [०चरक] अभिग्रह विशेष को धारण करनेवाला साधु (श्रीप)।

उवणत्थ वि [उपन्यस्त] उपन्यस्त, उपढीकित, 'गुण्विणीए उवणत्थ विविहं पाण-मोअण। भुंजमाण विवज्जा' (दस ५, ३६)।

उवण्णास पु [उपन्यास] १ वाक्योपक्रम, प्रस्तावना (ठा ४)। २ दृष्टान्त विशेष (दस १)। ३ रचना (अभि ६८)। ४ छल प्रयोग (प्रयौ २२)।

उवतल न [उपतल] हस्त-तल को चारो ओर का पार्वभाग (निचू १)।

उवताव पु [उपताप] सन्ताप, पीडा (सूम १, ३)।

उवताविय वि [उपतापित] १ पीडित। २ तप्त किया हुआ, गरम किया हुआ (सुर २, २२६, सण)।

उवत्त वि [उपात्त] गृहीत (पउम २६, ४६, सुर १४, १६०)।

उवत्थड वि [उपस्तुत] ऊपर-ऊपर आच्छादित (भग)।

उवत्थाण देखो उवट्ठाण (दसि ४, ५५)।

उवत्थाणा देखो उवट्ठाणा (पि ३४१)।

उवत्थिय देखो उवट्ठिय (सम १७)।

उवत्थु सक [उप + स्तु] स्तुति करना, श्लाघा करना। उवत्थुणत्ति (पि ५६४)। उवत्थुवदि (श्री) (उत्तर २२)।

उवदम सक [उप + दर्शय] दिखलाना, बतलाना। उवदमइ (कप्प; महा)। उवदंसेमि (विपा १, १)। भवि उवदमिन्मामि (महा)। वक उवदंसेमाण (उवा)। कवक उवदसिज्जामाण (राया १, १३)। सक उवदंसिय (आचा २)।

उवदंस पुं [उपदश] १ रोग-विशेष, गर्मी, सुजाक। २ अवलेह, चाटना (चार ६)।

उवदसण न [उपदर्शन] दिखलाना (मण)। ०कूड पु [०कूट] नीलवत नामक पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३)।

उवदसिय वि [उपदर्शित] दिखलाया हुआ (सुपा ३११)।

उवदसिर वि [उपदर्शिन] दिखलानेवाला (सण)।

उवदसेत्तु वि [उपदर्शयित्] दिखलानेवाला (पि ३६०)।

उवदव पु [उपद्रव] ऊम, बबेडा (महा)।

उवदा स्त्री [उपदा] भेंट, उपहार (रंभा)।

उवदाई स्त्री [उदकदायिका] पानी देनेवाली 'पाउवदाइ च रहाणेवदाइ च वाहिरपेत्तण-कारि ठवेत्ति' (राया १, ७)।

उवदाण न [उपदान] भेंट, नजराना (भवि)।

उवदिम सक [उप + दिशू] उपदेश देना। उवदिमइ (कप्प)।

उवदीय न [दे] द्वीपान्तर, अन्य द्वीप (दे १, १०६)।

उवदेसग वि [उपदेशक] व्याख्याता (श्रीप)।

उवदेसणया देखो उवएसणया (विसे २६, १६)।

उवदेसि वि [उपदेशिन्] उपदेशक (चार ४)।

उवदेही स्त्री [उपदेहिका] क्षुद्र जन्तु-विशेष, दीमक (दे १, ६३)।

उवद्व सक [उप + द्रु] उपद्रव करना, ऊम मचाना। भवि उवद्वद्विस्सइ (महा)।

उवद्व देखो उवद्व (ठा ५)।

उवद्वण न [उपद्रवण] उपद्रव करना, उपसर्ग करना (घमं ३)।

उवद्विय वि [उपद्रुत] पीडित, भय-भीत किया हुआ (आव ४, विने ७६)।

उवद्दुअ वि [उपद्रुत] हैरान किया हुआ (भक्त १०५)।

उवधाउ पु [उपधातु] निकृष्ट धातु (संवाच ५३)।

उवधारणया स्त्री [उपधारणा] अवग्रह-ज्ञान (लौदि १७४)।

उवधारणया स्त्री [उपधारणा] धारणा, धारण करना (ठा ८)।

उवधारिय वि [उपधारित] धारण किया हुआ (भग)।

उवनन्द पु [उपनन्द] स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि (कप्प)।

उवनन्द सक [उप + नन्द] अभिनन्दन करना। कवक उवनदिज्जमाण (कप्प)।

उवनगर देखो उवनयर (सुख २, १३)।  
उवनयर देखो उवणयर (सुपा ३५१)।

उवनिक्खित्त देखो उवणिक्खित्त (कस)।  
उवनिक्खेव नक [उपनि + क्षेप्य] १

घरोहर रखना। २ स्थापन करना। कृ उव-  
निकखेवियञ्ज (कस)।

उवनिग्गय देखो उवणिग्गय (णाय १, १)।  
उवनिवंधण न [उपनिवन्धन] १ सवन्व।

२ वि सवन्व-हेतु (विने १६३६)।  
उवनिमत देखो उवणिमत। उवनिमतेइ,  
उवनिमतेमि (कस, उवा)।

उवनिविट्ठ वि [उपनिविट्ठ] समीपस्थित  
(राय २७)।

उवनिहिय वि [औपनिबिक] देखो उवणि-  
हिय (पणह २, १)।

उवन्नत्थ वि [उपन्यस्त] स्थापित (स ३१०)।  
उवन्नास पुं [उपन्यास] निवेदन (दसनि १,  
८०)।

उवप्पदाण } न [उपप्रदान] नीति-विशेष,  
उवप्पचाण } दान-नीति, अभिमत अर्थ का  
दान (विपा १, ३, णाय १, १)।

उवप्पय वि [उपप्लुत] उपद्रुत, भय से ब्याप्त  
(राज)।

उवभुंज सक [उप + भुज्] उपभोग करना,  
काम में लाना। उवभुंजइ (पड्)। वक  
उवभुंजंत (उप पृ १८०)। कवक उअहु-  
ज्जंत, उवभुंजंत (से २, १०, सुर ८, १६१)।  
सक उवभुंजिऊण (महा)।

उवभुंजण न [उपभोजन] उपभोग (सुपा  
१६)।

उवभुत्त वि [उपभुत्त] १ जिसका उपभोग  
किया हो वह (वव ३)। २ अधिकृत (उप पृ  
१२४)।

उवभोअ } पु [उपभोग] १ भोजनातिरिक्त  
उवभोग } भोग, जिसका फिर-फिर भोग किया  
जाय जैसे-ब्रह्म-गृहादि, 'उवभोगो उ पुरो पुरो  
उवभुइ भवणवलाई' (उत्त ३३, अमि  
३१)। २ जिसका एक बार भोग किया जाय  
वह, अशन, पान वगैरह (भग ७, २, पडि)।

उवभोग पुं [उपभोग] १ एक बार भोग,  
आभेवन। २ अन्तरंग भोग (आवक २८४)।  
३ धारण करना (ठा ५, ३ टी—पय ३३८)।

उवभोगा } वि [उपभोग्य] उपभोग-योग्य  
उवभोज्ज } (राज, वृह ३)।

उवमा स्त्री [उपमा] १ सादृश्य, दृष्टान्त (अणु,  
उव; प्रासू १२०)। २ मत्य (ठा १०)। ३  
खाद्य-पदार्थ विशेष (जीव ३)। ४ 'प्रत्यव्या  
करण' सूत्र का एक लुप्त अभ्ययन (ठा १०)।

५ अलङ्कार-विशेष (विसे १६६ टी)। ६  
प्रमाण-विशेष, उपमान-प्रमाण (विसे ५७०)।

उवमाण न [उपमान] १ दृष्टान्त, सादृश्य।  
२ जिस पदार्थ से उपमा दी जाय वह (दसनि  
१)। प्रमाण-विशेष (सुम १, १२)।

उवमालिय वि [उपमालित] विभूषित,  
-सुशोभित।

'अमलामयपडिपुल्ल, कुवलयमालोवमालियमुहं च।  
करणमयपुरणकलसं, विलसंत पासए पुरमो'  
(सुपा ३४)।

उवमिय वि [उपमित] १ जिसको उपमा दी  
गई हो वह। २ जिसकी उपमा दी गई हो  
वह (आवम)। ३ न उपमा, सादृश्य (विसे  
६८५)।

उवमेअ वि [उपमेय] उपमा के योग्य (मै  
७३)।

उवय पु [दे] हाथी को पकड़ने का गड्ढा  
(पास्र)।

उवय देवो ओवय। वक उवयत (कप्प)।  
उवय (अप) देखो उवय (मवि)।

उवयर सक [उव + कृ] उपकार करना, हित  
करना। उवयरेइ (सण)। कृ. उवयरियव्व  
(सुपा ५६४)।

उवयर सक [उप + चर्] १ आरोप करना।  
२ भक्ति करना। ३ कल्पना करना ४ चिकि-  
त्सा करना। कवक उवयरिज्जंत (सुपा  
५७)।

उवयरण न [उपकरण] साधन, सामग्री; भाए  
घरोवअरण अज्ज हु एत्थि ति साहिअं तुमए'  
(काप्र २६, गउड)। २ उपकार (सत्त ४१  
टी)।

उवयरिय वि [उपकृत] १ उपकृत। २ उप-  
कार (वक्का १०)।

उवयरिय वि [उपचरित] आरोपित (विसे  
२८३)।

उवयरिया स्त्री [उपचारिका] दासी (उप पृ  
३८७)।

उवया सक [उप + या] समीप में जाना।  
उवयाइ (सुम १, ४, १, २७)। उवयति  
(विसे १४६)।

उवयाइय वि [उपयाचित] १ प्रायित, अभ्य-  
यित। २ न मनौती, किसी काम के पूरा होने  
पर किसी देवता की विशेष आराधना करने  
का मानसिक सकल्प (ठा १०, णाय १, ८)।

उवयाण न [उपयान] समीप में गमन (सुम  
१, २)।

उवयार पुं [उपकार] भलाई, हित (उव,  
गउड; वक्का ५८)।

उवयार पु [उपचार] १ पूजा, सेवा, आदर,  
भक्ति (स ३२, प्रति ४)। २ चिकित्सा,  
शुश्रूषा (पचा ६)। ३ लक्षण, शब्द-शक्ति-  
विरोध, अव्यारोप, 'जो तेसु घम्मसद्धो सो  
उवयारेण, निच्छएण इह' (दसनि १)। ४  
व्यवहार, 'एणएणुत्तोवयारकुमला' (विपा १,  
२)। ५ कल्पना, 'उवयारओ खित्तस्स विणि-  
गमण सख्वओ नत्थि' (विसे)। ६ आदेश  
(आवम)।

उवयारण वि [उपचारण] सेवा-शुश्रूषा करने-  
वाला (निच् ११)।

उवयारण न [उपकारण] अन्य-द्वारा उपकार  
करना, 'उवयारणपारणानु विणओ पउजि-  
यवो' (पणह २, ३)।

उवयारय वि [उपकारक] उपकार करने-  
वाला (धम्म ८ टी) ।

उवयारि वि [उपकारिन्] उपकारक (म  
२०८, विक २३, विवे ७६) ।

उवयारिअ वि [औपचारिक] उपचार से  
संबन्ध रखनेवाला (उवर ३४) ।

उवयालिपु [उपजालि] १ एक अन्तर्द्व मुनि,  
जो बसुदेव का पुत्र था और जिसने भगवान्  
श्रीनेमिनायजी के पास दीक्षा लेकर शयुज्य  
पर मुक्ति पाई थी (अंत १४) । २ राजा  
श्रेणिक का इस नाम का एक पुत्र, जिमने  
भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर-  
विमान मे देव गति प्राप्त की थी (अनु १) ।

उवरइ स्त्री [उपरति] विराम, निवृत्ति (विमे  
२१७७, २६४०, मम ४४) ।

उवरज सक [उप + रञ्ज] प्रमत्त करना ।  
कर्म उवरज्जदि (शौ) (मुद्रा ५८) ।

उवरग देखो ओअरय, 'उवरगपविट्टाए कणाग-  
मजरीए निव्वणत्थं दारदेसट्टिएण विट्ठं त  
पुव्ववरिएणयचेट्टियं' (महा) ।

उवरत्त वि [उपरत्त] १ अनुरक्त, राग-युक्त,  
'कुमारुणेमुवरत्ता' (सुपा २५६) । २ राहु से  
प्रसित (पाथ) । ३ स्नान (स ४७३) ।

उवरम अक [उप + रम्] निवृत्त होना,  
विरत होना, 'भो उवरमनु एयाओ अमुभज्ज-  
वसाणाओ' (महा) ।

उवरम पु [उपरम] १ निवृत्ति, विराम,  
(उप पृ ६३) । २ नाश (विसे ६२) ।

उवरय वि [उपरत्त] १ विरत, निवृत्त (आचा,  
सुपा ५०८) । २ मृत (स १०४) ।

उवरय देखो उवरग, 'उवरयगया दारं पिहिण्ण  
किपि मुणमुणंती चिट्ठइ' (महा) ।

उवरल (धप) देखो उव्वरिय [ट्टे] (पिण) ।

उवराग } पु [उपराग] सूर्य या चन्द्र का  
उवराय } ग्रहण, राहु-ग्रहण (परह, १, २,  
से ३, ३६, गउह) ।

उवराय पु [उपरात्र] दिन, 'रामोवराय अ-  
दिन्ने अन्नगिनायं एगया भुजे' (आचा) ।

उवरि अ [उपरि] ऊपर, ऊर्ध्व (उव) । 'भासा  
स्त्री [भापा] उव के बोलने के अनन्तर ही  
विशेष बोलना (पडि) । 'म, 'मग, 'मय,

हृ वि [तन] ऊपर का, ऊर्ध्व-स्थित (सम  
४३, सुपा ३५, मग; हे २, १६३, सम २२,  
८६) । 'हुत्त वि [अभिसुग्व] ऊपर की  
तरफ (सुपा २६६) ।

उवरि ऊपर देखो (कुमा) ।

उवरितण देखो उअरि-म (धर्मवि १५१) ।

उवरु ध मक [उप + रुध्] १ अटकाव  
करना । २ अडचन डालना । ३ प्रतिवन्ध  
करना, रोकना । कर्म उवरुध्मइ, उवरुध्ज्जइ,  
(हे ४, २४८) ।

उवरुध् पु [उपरुध्] नरक के जीवों को दु ख  
देनेवाले परमाधार्मिक देवों की एक जाति,  
'रुदोवरुध् काले अ, महाकाले त्ति यावरे'  
(मम २८), 'भजति अगमगाणि, ऊव्वाहुमि-  
राणि करचरणा । क्खोति कप्परणीहि, उवरुधा  
पावकम्मरया'

(सूप १, ५) ।

उवरुद्ध वि [उपरुद्ध] १ रक्षित । २ प्रतिरुद्ध,  
अवरुद्ध, 'पामत्त्वपमुहचोरोवरुद्धधणमव्वसत्थाण'  
(साधं ६८, उप पृ ३८५) ।

उवरोह सक [उप + रोधय्] अडचन  
डालना । कृ उवरोहणीय (सुत्त १, ४०) ।

उवरोह पुं [उपरोध] १ अडचन, बाधा  
(विसे १४१३, स ३१६), 'भूओवरोहरहिण'  
(भाव ४) । २ अटकाव, प्रतिवन्ध (वृह १;  
स १५) । ३ घेरा, नगर आदि का सैन्य द्वारा  
वेष्टन, 'उवरोहमया कीरड मप्परिखो पुरवरस्स  
पागारो' (वृह ३) । ४ निर्वन्ध, आग्रह  
(स ४५७) ।

उवरोहिअ वि [उपरोधित] जिसको उपरोध  
—निर्वन्ध किया गया हो वह (कुप्र १३५,  
४०६) ।

उवरोहि वि [उपरोधिन्] उपरोध करने-  
वाला (भाव ४) ।

उवल पु [उपल] १ पापण, पत्थर (प्राप्त  
१७५) । २ टांकी वगैरह को संस्कृत करने-  
वाला पापाण-विशेष (परण १) ।

उवलम्बण पु [उपलम्बण] साँकल (सिक्कइ)  
वाला एक प्रकार का दीपक (अनु) ।

उवलंभ सक [उप + लम्] १ प्राप्त करना ।  
२ जानना । ३ उलाहना देना । कर्म,

उवलंभिज्जइ (पि ५४१) । वकृ. उवलभेमाण  
(गाया १, १८) ।

उवलभ पु [उपलम्भ] १ लाभ, प्राप्ति (सुपा  
६) । २ ज्ञान (स ६५१) । ३ उलाहना, 'एव  
वह्वलभे' (उप ६४८ टी) ।

उवलंभ देखो उवालभ = उपालम्भ, 'उवल-  
भम्मि मिगावई नाहियवाई वि वत्तव्वे'  
(दसनि १, ७५) ।

उवलभण न [उपलम्भण] प्राप्ति (एदि  
२१०) ।

उवलभणा स्त्री [उपलम्भना] उलाहना,  
'धएण सत्यवाह वरहिं खेज्जणाहि य रुटणाहि  
य उवलभणाहि य खेज्जमाणा य रुटमाणा य  
उवलभेमाणा य धएणस्स एयमट्ठ गिावेदंति'  
(गाया १, १८) ।

उवलक्ख सक [उप + लक्षय्] जानना,  
पहिचानना । उवलक्खेइ (महा) । संकृ.  
उवलक्खेऊण (महा) । कृ उवलक्खिज्ज  
(उप पृ १७) ।

उवलक्ख पुं [उपलक्ख] ज्ञान, खबर, मालूम,  
'खित्ताइ अणुवलक्ख खयाणां लक्खगहएणम'  
(कुप्र ३२६) ।

उपलक्खण न [उपलक्षण] १ पहिचान  
(सुपा ६१) । २ अन्याय-बोधक संकेत  
(आ ३०) ।

उवलक्खिअ वि [उपलक्षित] १ पहिचाना  
हुआ, परिचित (आ १२) ।

उवलग्ग वि [उपलग्न] लगा हुआ, लगन,  
'पडमिणिएपत्तोवलग्गजलविदुनिचयचित्त' (कप्प,  
भवि) ।

उवलद्ध वि [उपलद्ध] १ प्राप्त । २ विज्ञात,  
'जइ सव्व उवलद्ध जइ अया भाविओ  
उवसमेण' (उव, गाया १, १३, १४) । ३  
उपालब्ध, जिसको उलाहना दिया गया हो वह  
(उप ७२८ टी) ।

उवलद्धि स्त्री [उपलद्धि] १ प्राप्ति, लाभ ।  
२ ज्ञान (विमे २०६) ।

उवलद्धिय देखो उवलद्ध, 'सत्तरत्तुहियस्स मे  
भक्खमुवलद्धियं, ता तुम भक्खस्स' (कुप्र  
५६) ।

उवलदूधु वि [उपलदूधु] ग्रहण करनेवाला,  
जाननेवाला (विसे ६२) ।

उबलभ देखो उबलभ = उप + लम् । वक्क.  
उबलभत (पि ४५७) । संक उबलभ  
(पि ५६०) ।  
उबलभत्ता } स्त्री [दे] वलय, कङ्कन  
उबलयभग्गा } (दे १, १२०) ।  
उबल्ल भक [ उप + लल ] क्रीडा करना,  
विलास करना । कवक्क. उबल्लंत (महा) ।  
प्रयो, वक्क उबलाल्लिज्जमाण (णाय १, १) ।  
उबल्लय न [दे] सुरत, मैथुन (दे १,  
११७) ।  
उबल्लिय न [उपललित] क्रीडा-विशेष  
(णाय १, ६) ।  
उबल्लह् देखो उबलभ = उप + लम् । संक.  
उबल्लहिय (स ३२), उबल्लह्ण (स  
६१०) ।  
उबल्ल सक [उप + ला] १ ग्रहण करना ।  
२ आश्रय करना । हेक्क उबल्लउ (वव १) ।  
उबल्लि देखो उवव्हि । उबल्लिज्जा (आचा २,  
३, १, २) ।  
उबल्लिप सक [उप + लिप्] लीपना,  
पोतना । नवि उबल्लिपिह्हि (पि ५४६) ।  
उबल्लिप सक [उप + लिप्] चुम्बन करना,  
'बलाणं जो उ सीसाणं जीहाए उबल्लिपए'  
(गच्छ १, ११६) ।  
उबल्लित्त वि [उपल्लि] लीपा हुआ, पोता  
हुआ (णाय १, १) ।  
उबलीण देखो उबल्लीण ।  
उबल्लुअ वि [दे] श्लज्ज, लजा-युक्त (दे १,  
१०७) ।  
उबल्लेव पुं [उपलेप] १ लेपना । २ कर्म-  
वन्व (श्रौप) । ३ संश्लेप (आचा) । ४  
आश्रयेप (सूत्र १, १, २) ।  
उबल्लेवण न [उपलेपन] ऊपर देखो (भग  
११, ६, निचू १, श्रौप) ।  
उबल्लेविय वि [उपलेपित] लीपा हुआ,  
पोता हुआ (कप्प) ।  
उबल्लोभ सक [उप + लोभय्] लालच  
देना, लोभ दिखाना । सक उबल्लोभेऊण  
(महा) ।  
उबल्लोहिय वि [उपलोभित] जिसको लालच  
दी गई हो वह (उप ७२८ टी) ।  
उबल्लि सक [उप + ली] १ रहना, स्थिति

करना । २ आश्रय करना । उबल्लियइ (पि  
१६६, ४७४), 'तस्यो संजयामेव वासावाच  
उबल्लिज्जा' (आचा २, ३, १, १, २) ।  
उबल्लीण वि [उपलीन] १ स्थित । २  
प्रच्छन्न-स्थित, 'उबल्लोणा मेट्टणवम्मं विरण-  
वेंति' (आचा २) ।  
उबवइ पु [उपपत्ति] जार (धर्मवि १२८) ।  
उबवज्ज भक [उप + पट्ट] १ उत्पन्न होना ।  
२ संगत होना, युक्त होना । उबवइ, भवि  
उबवज्जिह्हि (भग, महा) । वक्क उबवज्ज-  
माण (ठा ४) । सक । उबवज्जित्ता (भग  
१७, ६) । हेक्क उबवज्जिउ (सूत्र २, १) ।  
उबवज्जण न [उपवर्जन] त्याग, 'असमजसो-  
ववज्जणमिह जायइ सव्वसंगचायाओ' (सुपा  
४७१) ।  
उबवज्जमाण देखो उबवाय = उप + वादय् ।  
उबवज्ज वि [उपवाह] राज आदि का वल्लभ  
—प्रधान, सेनापति भादि (दस ६, २, ५) ।  
उबवज्ज वि [औपवाह] प्रधान आदि का,  
प्रधान आदि को बैठने योग्य (दस ६, २, ५) ।  
उबवट्ट भक [उप + वृत्] च्युत होना,  
मरना, एक गति से दूसरी गति में जाना ।  
उबवट्टइ (भग) । वक्क उबवट्टमाण (भग) ।  
उबवण न [उपवन] बगीचा (णाय १, १,  
गउड) ।  
उबवण्ण वि [उपपन्न] १ उत्पन्न, 'उबवण्णो  
माणुसम्मि लोणम्मि' (उत्त ६) । २ सगत,  
युक्त (पचा ६, उवर ४७) । ३ प्रेरित,  
'उबवण्णो पावकम्मुरा' (उत्त १६) । ४ न.  
उत्पत्ति, जन्म (भग १४, १) ।  
उबवत्ति स्त्री [उपपत्ति] १ उत्पत्ति, जन्म  
(ठा २) । २ युक्ति, न्याय (पचम २, ११७,  
उवर ४६) । ३ विषय । ४ सम्व, 'विसउ त्ति  
वा समउ त्ति वा उबव त्ति त्ति वा एगट्टा'  
(आहू १) ।  
उबवत्तु वि [उपपत्तु] उत्पन्न होनेवाला,  
'देवलोगेसु देवनाए उबवत्तारो भवति' (श्रौप,  
ठा ८) ।  
उबवन्न देखो उबवण्ण (भग, ठा २, २, स  
१५८, १६२) ।  
उबवयण न [उपपतन] देखो उबवाय =  
उपपात, 'उबवयण उबवाओ' (पचमा) ।

उबवसण न [उपवसन] उपवास (सुपा  
६१६) ।  
उबवाइय वि [औपपादिक, औपपातिक]  
१ उत्पन्न होनेवाला, 'अत्थि मे आया उव-  
वाइए, नत्थि मे आया उववाइए' (आचा) ।  
२ देवहूप या नारक रूप से उत्पन्न होनेवाला  
(पएह १, ४) ।  
उबवाय सक [उप + पादय्] सपादन  
करना, सिद्ध करना । उबवायए (उत्त १,  
४३, दस ८, ३३) ।  
उबवाय पु [उप + वादय्] वाद्य बजाना ।  
कवक्क उपवज्जमाण, उबवज्जमाण (कप्प,  
राज) ।  
उबवाय पु [उपपात] १ देव या नारक जीव  
की उत्पत्ति—जन्म (कप्प) । २ सेवा, आदर-  
'आणोववायवयणनिहेसे चिट्ठति' (भग ३, ३) ।  
३ विनय । ४ आना, 'उबवाओ रिण्हेसो  
आणा विण्णो य होति एगट्टा' (वव ४) ।  
५ प्रादुर्भाव (पएण १६) । ६ उपसपादन,  
संप्राप्ति (निचू ५) । 'कप्प पु [कल्प]  
साव्वाचार-विशेष, पारवंस्यो के साथ रह कर  
सविग्न विहार की संप्राप्ति (पंचमा) । 'य  
वि [ज] देव या नारक गति में उत्पन्न  
जीव (आचा) ।  
उबवास पुन [उपवास] उपवास, अनाहार,  
दिन-रात भोजनादि का अभाव (उवा, महा) ।  
उबवासि वि [उपवासिन्] जिसने उपवास  
किया हो वह (पचम ३३, ५१, सुपा ४७८) ।  
उबवासिय वि [उपवासित] उपवास किया  
हुआ (भवि) ।  
उबविअ देखो उववीअ; 'सव्वग जुव्वणो च  
(? व) विमो' (धर्मवि ८) ।  
उबविट्ट वि [उपविट्ट] बैठना हुआ, निपएण  
(आवम) ।  
उबविणिग्गय वि [उपविनिर्गत] सतत  
निर्गत (जीव ३) ।  
उबविस भक [उप + विश्] बैठना । उव-  
विसइ (महा) । सक उबविसिअ (अभि  
३८) ।  
उबविसण न [उपवेशन] बैठना (कुलक ७) ।  
उववीअ न [उपवीत] १ यज्ञसूत्र, जनेक

(रागा १, १६, गडड) । २ वि सहित, युक्त, 'गुणसपभाववीडो' (विसे ३४११) ।

उववीड प्र [उपपीड] उवमदंन, 'मिणियो-ववीड ध्यानिगणेण नाई पीडियो' (रभा) ।

उववृह मक [उप + वृह] १ पुष्ट करना । २ प्रशमा करना, तारोफ करना । सकृ उववृहैऊण (दसनि ३) । कृ उववृहैयव्व (दसनि ३) ।

उववृहण न [उपवृहण] १ वृद्धि, पोषण (पण्ह २, १) । २ प्रजमा, ग्लाना (पचा २) । उववृहा स्त्री [उपवृहा] ऊपर देखो, उववृह-थिरीकणे वच्छल्लपभावणे अट्ट' (पडि) ।

उववृहणिय वि [उपवृहणीय] पुष्टि-कर्त्ता (निव्व ८) । स्त्री पट्ट-विशेष, राजा वगैरह के भोजन-समय में उपभोग में आनेवाला पट्टा (निव्व ६) ।

उववृहिय वि [उपवृहित] १ वृद्धि को प्राप्त, पुष्ट (न १५) । २ प्रशंसित (उप पृ ३८६) ।

उववृहिर वि [उपवृहिन] १ पोषक, पुष्टि-कारक । २ प्रशमक (सण) ।

उववेय वि [उपेत] युक्त, सहित (रागा १, १, श्रीप वसु, मुर १, ३४, विसे ६६६) ।

उवसम्म सक [उपस + क्रम्] समीप आना । वट्ट उवसक्कमत (दस ५, २, १०) ।

उवसमखड सक [उपस + कृ] रचना, पकाना । कवक उवसरसडिज्जमाण (आचा २, १ ४, २) ।

उवसखा स्त्री [उपसख्या] दयावस्थित पदायं-ज्ञान (सूत्र १, १२) ।

उवसगह नक [उपस + गह] उपकार करना । कर्म उवसगहिवइ (स १६१) ।

उवसंवर सक [उपसं + वृह] उपसहार करना । उवसवरमि (भवि) ।

उवसथरिय देखो उवसहरिय (भवि) ।

उवसथिय वि [उपसथित] जिसका उपसहार किया गया हो वह, समापित (विसे १०११) ।

उवसंत्ति सक [उपसं + त्ति] संवय करना । संकृ उवसत्तिवि (सण) ।

उवसत्थिय वि [उपसत्थित] १ समीप में स्थित । २ उपस्थित (मण) ।

उवसत्त वि [उपशान्त] १ क्रोधवि विकार-

रहित (सूत्र १, ६, वमं ३) । २ नष्ट, अपगत, 'उवसंततरयं करेह' (राय) । ३ पु ऐरवत् क्षेत्र के स्वनाम-वन्त्य एक तीर्थ-द्वार-क्षेत्र (पव ७) । 'मोह पु [मोह] ग्यारहवां गुण-स्थानक (सम २६) ।

उवसत्ति स्त्री [उपशान्ति] उपशम (आचा) ।

उवसधारिय वि [उपसधारित] नकल्पित (निव्व १) ।

उवसपज्ज [उपस + पट्ट] १ समीप में जाना । २ स्वीकार करना । ३ प्राप्त करना ।

उवसपज्जइ (स १६१) । वट्ट उवसंपज्जित (वव १) । संकृ उवसपज्जिता, उवसपज्जित्ताण (कण्य उवा) । हेक उवसपज्जिड (वृह १) ।

उवसंपण वि [उपसपन्न] १ प्राप्त । २ समीप-गत (धर्म ३) ।

उवसपया स्त्री [उपसपट्ट] १ ज्ञान वगैरह की प्राप्ति के लिए दूसरे उर्वादि के पान जाना (धर्म ३) । २ अन्य पुरु आदि की सत्ता का स्वीकार करना (ठा ३, ३) । ३ लाभ, प्राप्ति (उत्त २६) ।

उवसहर सक [उपस + हर] १ हटाना, दूर करता । २ सकेलना, ममेटना, 'ता उवसंहर इम कोव' (कुप्र २८०) । सकृ 'उवसंहरिड नोनेसदेवमाय गयो जाव' (धर्मवि १८) ।

उवसंहरिय वि [उपसंहृत] समेटा हुआ, 'वंतरेण य उवसहरिया माया' (महा) ।

उवसहार पु [उपसहार] संकोचन, समेट (द्वय १०) ।

उवसहार पु [उपसहार] १ समाप्ति । २ उपनय (आ ३६) ।

उवसर्ग पु [उपसर्ग] १ उपद्रव, बाधा (ठा १०) । २ श्रव्य-विशेष, जो धातु के पूर्व में जोड़े जाने से उस धातु के अर्थ की विशेषता करता है (पण्ह २, २) ।

उवसर्ग वि [दि] मन्द, आलसी (दि १, ११३) ।

उवसर्गिअ वि [उपसर्गित] हँसान किया हुआ (सिदि १११७) ।

उवसज्ज सक [उप + सज्ज] आश्रय करना । उवसज्जिअ (आचा २, ८, १) ।

उवसज्जण न [उपसर्जन] १ अप्रवान, गौरा (विसे २२६२) । ३ मय्वन्व (विसे ३००५) ।

उवसत्त वि [उपसक्त] विशेष आसक्तिवाला (उत्त ३७) ।

उवसद पुं [उपशब्द] सुरत-समय का शब्द (तदु) ।

उवसद पुन [उपशब्द] १ प्रच्छन्न शब्द । २ समीप का शब्द (तदु ५०) ।

उवसत्प सक [उप + सत्प] समीप जाना । सकृ उवसत्पिऊग (महा, स ५२६) ।

उवसत्पि वि [उपसर्पित] समीप में जाने-वाला (भवि) ।

उवसत्पिय वि [उपसर्पित] पास गया हुआ (पाम) ।

उवसम पु [उप + शम्] १ क्रोध-रहित होना । २ शान्त होना, ठंडा होना । ३ नष्ट होना । उवसमइ (कण्य, कस, महा) । कृ उवसमियव्व (कण्य) । प्रयो उवसमेइ (विसे १२८४), उवसमावेइ (पि ५५२) । कृ उवसमाविशव्व (कण्य) ।

उवसम पुं [उपशम] १ क्रोध का अभाव, क्षमा (आचा) । २ इन्द्रिय-निग्रह (धर्म ३) । ३ पन्द्रहवां दिवस (चद १०) । ४ मुहूर्त-विशेष (नम ५१) । 'सम्म न [सस्यक्त्व] सम्यक्त्व-विशेष (भग) ।

उवसमणा स्त्री [उपशमना] आत्मिक प्रयत्न-विशेष, जिससे कर्म-मुद्गल उदय-उदीरणादि के अयोग्य बनाए जाय वह (पच) ।

उवसमि वि [उपशमिन्] उपशमवाला (विसे ५३० टी) ।

उवसमिअ पु [औपशमिक] कर्मों की उपशम (अणु ११३) ।

उवसमिय वि [उपशमित] उपशम-प्राप्त (भवि) ।

उवसमिय वि [औपशमिक] १ 'उपशम' से होनेवाला । २ उपशम से संबन्ध रखनेवाला (सुपा ६४८) ।

उवसाम सक [उप + शमय] १ शान्त करना । २ रहित करना । उवसामेइ (भग) । वट्ट उवसामेमाण (राज) । कृ उवसामियव्व (कण्य) । सकृ उवसामइत्तु (पंच) ।

उपसाम पुं [उपशम] उपशान्ति (त्रिरि २३५)।

उपसाम देखो उपसम (विसे १३०६)।

उपसामन त्रि [उपशमक] १ क्रोवादि को उपशान्त करनेवाला (विसे ५२६; श्राव ४)।  
२ उपशमसे संबन्ध रखनेवाला; 'उपसामन-वेडिगयन्त होइ उपसामं तु सम्मत' (विसे २७६५)।

उपसामण न [उपशमन] उपशान्ति, उपशम (स ४६०)।

उपसामणया स्त्री [उपशमना] उपशम (ठा ८)।

उपसामय देखो उपसामग (सन २६, विसे ६३०२)।

उपसामिय वि [औपशमिक] १ उपशम-संबन्धी। २ पुं. भाव-विशेष; 'मोहोवन्मस-हानो, नव्वो उपसामियो भावो' (विसे ३४-६४)। ३ न. सम्बन्ध-विशेष (विसे ५२६)।

उपसामिय वि [उपशमित] शान्त किया हुआ (वव १)।

उपसाह सक [उप + कथ्] कहना। उपसाहइ (सण)।

उपसाहण वि [उपसाधन] निष्पादक (सण)।  
उपसाहिय वि [उपसाधित] तैयार किया हुआ (पाउम ३४, ८, सण)।

उपसिक्त वि [उपसिक्त] पिक्त, छिडका हुआ (रना)।

उपसिलोअ नक [उपश्लोक्य] वर्णन करना, प्रशंसा करना। कृ उपसिलोअइइइव (शौ) (मुद्रा १६८)।

उपसुत्त वि [उपसुत्त] नोमा हुआ (से १५, ११)।

उपसुद्ध वि [उपशुद्ध] निर्दोष (सूय १, ६)।

उपसूच्य वि [उपसूचित] सूचित (मण)।

उपसेर वि [दि] रति योग्य (दे १, १०४)।

उपसेवण न [उपसेवन] सेवा, परिचय (पव ६)।

उपसेवय वि [उपसेवक] सेवा करनेवाला, भक्त (भवि)।

उपसोभ शक [उप + शुभ्] शोभना, विराजना। कृ उपसोभमाण, उपसोभमाण (मग, खाया १, १)।

उपसोभिय वि [उपशोभित] सुशोभित, विराजित (श्रीप)।

उपसोहा स्त्री [उपशोभा] शोभा, विभूषा (सुर ३, १०४)।

उपसोहिय वि [उपशोधित] निर्मल किया हुआ, शुद्ध किया हुआ (खाया १, १)।

उपसोहिय देखो उपसोभिय (सुपा ५, भवि, सार्ध ६६)।

उपस्सग देखो उपसग (कस)।

उपस्सय पुं [उपाश्रय] जैन साधुओं के निवास करने का स्थान (सम १८८, श्राव १७ भा, उप ६४८ टी)।

उपस्सा स्त्री [उपाश्रा] द्वेष (वव १)।

उपस्सिय वि [उपाश्रित] १ द्वेषी (वव १)।  
२ शत्रुद्वेषी। ३ समीप में स्थित। ४ न. द्वेष (राज)।

उपस्सुदि स्त्री [उपश्रुति] प्रश्न-फल को जानने के लिए ज्योतिषी को कहा जाता प्रथम वाक्य (हास्य १३०)।

उपह न [उभय] दोनों, युगल (कुमा, हे २, १३८)।

उपह अ [दे] 'देखो' अर्थ को बतलानेवाला अव्यय (पड्)।

उपहइ सक [समा + रम्] शुरू करना, आरम्भ करना। उपहइइ (पड्)।

उपहइ वि [उपहइत] १ उपह्वीकृत, उपन्यासित (राज)। २ भोजन त्याग में अर्पित भोजन (ठा ३, ३)।

उपहण सक [उप + हन्] १ विनाश करना। २ आघात पहुँचाना। उपहणइ (उव)। कर्म उपहम्मइ (पड्)। कृ. उपहणत (राज)।

उपहणण न [उपहनन] १ आघात। २ विनाश (ठा १०)।

उपहत्थ सक [समा + रच्] १ रचना, बनाना। २ उत्तेजित करना। उपहत्थइ (हे ४, ६५)।

उपहत्थिय वि [समारचित] १ बनाया हुआ। २ उत्तेजित (कुमा)।

उपहम्म° देखो उपहण।

उपहय वि [उपहत] १ विनाशित (प्रासु १३५)। २ दूषित (वह १)।

उपहर सक [उप + ह] १ पूजा करना।

२ उपस्थित करना। ३ अर्पण करना। उपहरइ (हे ८, २५६)। भूका उपहरिसु (ठा ६)।

उपहस नक [उप + हस्] उपहास करना, हँसी करना। कृ उपहसणिल्ल (स ३)।

उपहसिअ वि [उपहसित] १ जिसका उपहास किया गया हो वह (पि १५५)। २ न. उपहास (तदु)।

उपहा स्त्री [उपधा] माया, कपट (धर्म ३)।

उपहाण न [उपधान] १ तकिया, उमीमा (दे १, १४०, सुर १२, २५, सुपा ४)। २ तपस्या (सूय १, ३, २, २१)। ३ उपाधि, 'सन्ध्यापि फलिहरयण उपहाणवसा कलिजए काल' (उप ७२८ टी)।

उपहार पु [उपहार] १ भेट, उपहार (प्रति ७४)। २ विन्तार, पैलाव, 'पहाममुदश्रोव-हारेहि मव्वश्रो चव दीवयत' (कप्प)।

उपहारणया देखो उपधारणया (राज)।

उपहारिअ वि [उपधारित] अवधारित, निश्चित (सूय २, ७)।

उपहारिआ स्त्री [दे] दौहनेवाली स्त्री (गा उपहारी) ७३१, दे १, १०८)।

उपहारुल्ल वि [उपहारवत्] उपहारवाला (सक्ति २०)।

उपहास पु [उपहास] हँसी, ठट्टा, दिक्लगी (हे २, २०१)।

उपहास वि [उपहास्य] हँसी के योग्य, 'सुसमत्यो वि हु जो,

जरायमज्जियं संपय निसेवेइ।

सो अम्मि। ताव लोए, ममव

उवहामयं लहइ' (सुर १, २३२)।

उपहासणिल्ल वि [उपहसनीय] हास्यास्पद (पउम १०६, २०)।

उपहि पुं [उदधि] समुद्र, सागर (से ५, ४०, ४२, भवि)।

उपहि पुंस्त्री [उपाधि] १ माया, कपट (आचा)। २ कर्म (सूय १, २)। ३ उपकरण, साधन; 'तिविहा उपहीं पररात्ता' (ठा ३, भोघ २)।

उपहिंड सक [उप + हिण्ड] पर्यटन करना, घूमना; 'मिस्सत्थं उपहिंडे' (सवोष ४१)।



उपह्रिय वि [उपहित] १ उपहीवित, अपित ।  
२ निहित, स्थापित (श्राचा, विसे ६३७) ।  
३ न उपहीवन, अपरण (नितू २०) ।

उपह्रिय वि [औपाधिन्] माया से प्रच्छन्न  
विचरनेवाला (शाया १, २) ।

उपहुज सक [उप + भुज्] उपभोग करना,  
कार्य में लाना । उपहुजइ (पि ५०७) । क्वकृ  
उपहुज्जत (पि ५४६) ।

उपहुज्जत देवो उपभुज्जत (पाग. से १०, ५५) ।

उवाइमम नक [उपाति + क्रम्] उल्लंघन  
करना । नक उवाइमम (श्राचा २,  
८, १) ।

उवाइण सक [उपाति + नी] गुजारना । सक,  
उवाइणित्ता (श्राचा २, २, २, ७) ।

उवाइण सक [उप + याच्] मनीती करना,  
किसी काम के पूरा होने पर किसी देवता  
की विशेष आराधना करने का मानसिक  
संकल्प करना । हेकृ 'जति एं अह देवाणु-  
पिया । दारं वा दारिय वा पयामि, ताए  
अहं तुवं जाय च दाय च भागं च अकल-  
यणिह च अणुवइस्सामि ति कट्टु ओवाइय  
'उवाइणित्ताए' (विपा १, ७) ।

उवाइण सक [उपा + दा] १ ग्रहण करना ।  
२ प्रवेश करना । हेकृ उवाइणित्ताए (ठा  
३) । प्रयो 'त मेय खनु मम जितसत्तुम्प  
रएणो सताए तच्चाए तहियाए अचितहाए  
सन्नूताए जिणपरएत्ताए भावाए अभिग-  
मएद्वयाए एयमट्ठ उवाइणावित्ताए' (शाया  
१, १२) ।

उवाइणाव सक [अति + क्रम्] १ उल्लंघन  
करना । २ गुजारना, पतार करना । उवाइ-  
णावेइ । वकृ उवाइणावेत । हेकृ उवाइणा-  
वेत्ताए (कस), उवाइणावित्ताए (कप्प),  
'सि गामसि वा जाव सनिवेसंसि वा वहिया  
से ए सनिविट्ठ पेहाए कप्पइ निग्गंयाए वा  
निग्गंयाए वा तदिदवसं भिक्खायरियाए  
गतूए पडिनियत्ताए, नो से कप्पइ त रयणि  
तत्वेव उवाइणावेत्ताए । जे खलु निग्गंये वा  
निग्गंया वा तं रयणि तत्वेव उवाइणावेइ,  
उवाइणावेत वा साइजइ, से दुहमो वीइक्क-  
ममाणे आवज्जइ चउमासियं परिहारट्टाए

अणुपाइय' (कम), 'नो मे कप्पइ त रयणि  
उवाइणावित्ताए' (कप्प) ।

उवाइणाविय वि [अतिक्रान्त] १ उल्लंघित ।  
२ गुजारा हुआ, पतार किया हुआ, पताया  
हुआ, 'नो कप्पइ निग्गंवाए वा निग्गंयाए वा  
असरा वा ४ पढमाण पोख्खीए पडिग्गाहेत्ता  
पच्छिमं पोख्खिं उवाइणावेत्ताए । ने म आह्व  
उवाइणाविय सिया, तं नो अण्णणा भुजेज्जा'  
(कम) ।

उवाइय देवो उवाइय (शाया १, २, गुपा  
१०, महा) ।

उवाइं श्री [उलावनी] पोतापनी नामक विद्या  
की प्रतिपद्याभूत एव विद्या (विने २८५४) ।

उवाएज्ज वि [उपादेय] प्राप, ग्रहण करने  
उवाएय } योग्य (विने, स १४८) ।

उवागच्छ सक [उपा + गच्छ] मनीप में  
उवागम } आना । उवागच्छइ (नग कप्प) ।  
अवि उवागमिन्नाति (श्राचा २, ३, १, २)  
सक उवागच्छित्ता (भग. कप्प) । हेकृ  
उवागच्छित्ताए (कप्प) ।

उवागम पु [उपागम] समीप में आगमन  
(राज) ।

उवागमण न [उपागमन्] १ समीप में  
आगमन । २ न्यान, स्थिति (श्राचानि  
३११) ।

उवागय वि [उपागत] १ समीप में प्राया  
हुआ (श्राचा २, ३, १, २) । २ प्राप्त,  
'एणदिवमपि जीवो पवज्जमुवागमो अणान-  
मणो' (उत्र) ।

उवाडिय वि [उत्पाटित] उवाडा हुआ (विपा  
१, ६) ।

उवाणया } श्री [उपानह्] जूता (पट्),  
उवाणहा } 'पुव्वमुत्तारियाणो उवाणहाओ  
पएसु ठवियाओ' (गुपा ६१०, सूम १, ४,  
२, ६) ।

उवादा सक [उपा + दा] ग्रहण करना ।  
कर्म उवादीयति (भग) । सक उवादाय,  
उवादिणत्ता (भग) । क्वकृ उवादीयमाण  
(श्राचा २) ।

उवादाण न [उपादान] १ ग्रहण, स्वीकार ।  
२ कार्यरूप में परिणत होनेवाला कारण ।  
३ जिसका ग्रहण किया जाय वह, प्राप्प,

'नाओमादणो चिय मुच्छा लीमोति वो षणो'  
(विने २१७०) ।

उवाडिय वि [उपजग्ध] उवाडुक (राज) ।

उवाय पु [उपाय] १ हेतु, मायन (उत्त  
३२) । २ दृष्टान्त, 'उवाओ मोआपम्भेण म  
नियम्भेण म' (आचू १) । ३ प्रतीकार (ठा  
४, ३) ।

उवाय मय [उप + याच्] मनीती करना ।  
वकृ उवायमाण (शाया १, २, १७) ।

उवायण न [उपायन] भेद, उपहार, नत्र-  
राना (उप २४५, गुपा २२४, ४१०,  
गठ ४) ।

उवायणाव देवो उवाइणाव । उवायणावेइ ।  
वकृ उवायणावेत । हेकृ उवायणावेत्ताए  
(कम), उवायणावित्ताए (कप्प) ।

उवायण देवो उवादाण (अच्छु १२, स २,  
विने २६७६) ।

उवायाव वि [उपायाव] समीप में प्राया  
हुआ (निर १, १) ।

उवाएड वि [उपाएड] आण (म ३३१) ।  
उवालभ मय [उपा + लभ्] उवाहना  
देना । उवाएड (कप्प) । वकृ उवालभत  
(पत्तम १६५१) । वकृ उवाएडित्ता (वृह  
४) । कृ उवालभणित्त (मान १५५) ।

उवालभ पु [उपालम्भ] उवाहना (शाया १,  
१, मा ४) ।

उवालड वि [उपालड] जिसको उवाहना  
दिया गया हो वह 'उवाएडो म लो सिवो  
वभणो' (नितू १, माल १६७) ।

उवालह सक [उपा + लभ्] उवाहना  
देना । अवि उवाएडिस्स (प्राप) ।

उवावत्त पु [उपावृत्त] वह अश्व जो सेटने  
से अश्व-मुक्त हुआ हो (चार ७०) ।

उवावत्तित (श्री) वि [उपावृत्तित] उपयुक्त  
अश्व से युक्त (चार ७०) ।

उवास सक [उप + आस्] उपासना  
करना, सेवा करना, 'मुत्तसमाणो उवासेवा  
सुपरणं सुतवत्तिव' (सूम १, ६) । वकृ,  
उवासमाण (ठा ६) ।

उवास पु [अवकाश] खाली जगह, आकाश  
(ठा २, ४, ८, भग) ।

उवासग वि [उपासक] १ सेवा करनेवाला ।  
२ पुं. जैन या बुद्ध दर्शन का अनुयायी गृहस्थ  
(धम्म १०१३) ।

उवासग वि [उपासक] १ उपामना करने-  
वाला, सेवक । २ पु श्रावक, जैन गृहस्थ  
(उत्त २) । °दसा स्त्री [°दशा] सातवाँ  
जैन अंग ग्रन्थ (सम १) । °पडिमा स्त्री  
[°प्रतिमा] श्रावको को करने योग्य नियम-  
विशेष (उत्त २) ।

उवासण न [उपासन] उपामना, सेवा (स  
५४३, मै ८६) ।

उवासणा स्त्री [उपासना] १ क्षौर कर्म,  
हजामत वगैरह सफाई । २ मेवा, शुश्रूषा,  
'उवासणा भसुकम्ममाइया, गुत्तरायाईणं वा  
उवासणा पञ्जुवासणया' (भावम) ।

उवासय देखो उवासग (सम ११६) ।

उवासय पु [उपाश्रय] जैन मुनियो का  
निवास-स्थान (उप १४२ टी) ।

उवासिय वि [उपामित] सेवित (पउम ६८,  
४२) ।

उवाहण सक [उपा + हन्] विनाश करना,  
मारना । वक. उवाहणत (पएह १, २) ।

उवाहणा देखो उवाणहा (अनु, णाया १,  
१५) ।

उवाहि पुस्त्री [उपाधि] १ कर्म-जनित  
विशेषण (आचा) । २ सामीप्य, संनिधि  
(भग १, १) । ३ अस्वाभाविक धर्म, 'सुद्धोवि  
फलहमणी उपाहिवमणो धरेइ भन्नत्तं' (धम्म  
११ टी) ।

उवि सक [उप + इ] १ समीप आना । २  
स्वीकार करना । ३ प्राप्त करना । उवित  
(भग) । वक. उवित (पि ४६३, प्रामा) ।

उविअ देखो अविअ = अपि च (स २०६) ।

उविअ वि [उपेत] युक्त, सहित (भवि) ।

उविअ न [दे] शीघ्र, जल्दी (दे १, ८६) ।  
२ वि परिकर्मित, संस्कारित; 'एणाणमणिक-  
णगरयणविमलमहरिहनिउणोवियमिसिमिसत्त-  
विरइयमुसिलिट्टुविसिट्टुलट्टुसंठियपसत्यधाविद्ध-  
वीरखलए' (णाया १, १) ।

उविद पुं [उपेन्द्र] कृष्ण (कुमा) । °वज्जा  
स्त्री [°वज्जा] र्यारह असुरो के पादवाला  
एक छन्द (पिंग) ।

उविद पुंन [उपेन्द्र] एक देव-विमान (देवेन्द्र  
१४१) ।

उविकख सक [उपे + ईच्] उपेक्षा करना,  
अनादर करना । वक. उविकखमाण (द्र  
१६) ।

उविकखा स्त्री [उपेक्षा] उपेक्षा, अनादर  
(काल) ।

उविकखय वि [उपेक्षित] तिरस्कृत, अनादृत  
(मुपा ३६५) ।

उविकखेव पु [उट्टिच्चेप] हजामत, मुण्डन  
(तन्दु) ।

उवियग्ग वि [उट्टिम] खिन्न, उद्वेग प्राप्त  
(राज) ।

उवीव अक [उद् + विच्] उद्वेग करना,  
खिन्न होना । उवीवइ (नाट) ।

उवे देखो उवि । उवेइ, उव्वेत्त (श्रौप) । वक.  
उव्वेत्त (महा) । सक. उवेच्च (सूम्म १, १४) ।

उवेक्ख देखो उविकख । उवेक्खह (मुपा  
३५४) । क. उवेक्खियव्व (स ६०) ।

उवेक्खिअ देखो उविकखिय (गा ४२०) ।  
उवेच्च देखो उवे ।

उवेय वि [उपेत] १ समीप-गत । २ युक्त,  
महित (सत्या ६) ।

उवेय वि [उपेय] उपाय-साध्य (राज) ।

उवेल्ल अक [प्र + स] फैलना, प्रसारित होना ।  
उवेल्लइ (हे ४, ७७) ।

उवेस अक [उप + विश्] बैठना । वक.  
उवेसमाण (पिड ५८, ) ।

उवेह सक [उप + ईक्ष्] उपेक्षा करना,  
तिरस्कार करना, उदासीन रहना । उवेहइ  
(धम्म १६) । वक. उवेहत, उवेहमाण (म  
४६, ठा ६) । क. उवेहियव्व (सण) ।

उवेह सक [उत्प्र + ईच्] १ जानना, सम-  
झना । २ निश्चय करना । ३ कल्पना करना ।  
उवेहाहि । वक. उवेहमाण, 'उवेहमाणे अणु-  
वेहमाणं ब्रूया, उवेहाहि समियाए' (आचा) ।  
सक. उवेहाए (आचा) ।

उवेहण न [उपेक्षण] उपेक्षा, उदासीनता  
(सवोध १०, हित २३) ।

उवेहा स्त्री [उपेक्षा] तिरस्कार, अनादर, उदा-

सीनता (सम ३२) । °कर वि [°कर] उपे-  
क्षक, उदासीन (आ २८) ।

उवेहा स्त्री [उत्प्रेक्षा] १ ज्ञान, समझ । २  
कल्पना । ३ अवधारण, निश्चय (श्रौप) ।

उवेहिय वि [उपेक्षित] अनादृत, तिरस्कृत  
(उप १२६, मुपा १३५) ।

°उव्व देखो पुव्व (गा ४१४) ।

उव्वत वि [उद्वान्त] १ वमन किया हुआ ।  
२ निष्क्रान्त, निर्गत (अभि २०६) ।

उव्वक्क सक [उद् + वम्] १ बाहर निकाल-  
ना २ वमन करना । हेक्क उव्वक्किउ (मुपा  
१३६) ।

उव्वक्क } वि [उद्वान्त] १ बाहर निकाला  
उव्वक्किय } हुआ (वव १) । २ वमन किया  
हुआ;

'सतोसामयपाए, काउ उव्वक्कियं हयासेए ।  
ज गहिअए विरइ, कलकिया मोहमुदेए'  
(मुपा ४३५) ।

उव्वग्ग देखो ओवग्ग । सक. उव्वग्गिगि  
(भवि) ।

उव्वट्ट उभ [उद् + वृत्, वर्त्तय्] १  
चलना-फिरना । २ मरना, एक गति से दूसरी  
गति में जन्म लेना । ३ पिष्टिका आदि से  
शरीर के मल को दूर करना । ४ कर्म-पर-  
माणुओं की लघु स्थिति को हटाकर लम्बी  
स्थिति करना । ५ पारव को चलाना-फिराना ।  
६ उत्पन्न होना, उदित होना । उव्वट्टइ  
(भग) । वक. उव्वट्टंत्त, उव्वट्टमाण, उअत्तत्त  
(भग, नाट, उत्तर १०७, बृह १) । सक.  
उव्वट्टित्ता, उहट्टु, उव्वट्टिय (जीव १,  
विपा १, १, आचा २, ७, स २०६) ।  
हेक्क, उव्वट्टित्ताए (कस) ।

उव्वट्ट देखो उव्वट्टिय = उद्वृत्त (भग) ।

उव्वट्ट वि [दे] १ नीराग, राग-रहित । २  
गलित (दे १, १२६) ।

उव्वट्टण न [उद्वृत्तन] १ शरीर पर से मल  
वगैरह को दूर करना । २ शरीर को निर्मल  
करनेवाला द्रव्य—सुगन्धि वस्तु (उवा, णाया  
१, १३) । ३ दूसरे जन्म में जाना, मरण । ४  
पारव का परिवर्तन (भाव ४) । ५ कर्म-पर-  
माणुओं की ह्रस्व स्थिति को दीर्घ करना  
(पंच) ।

उच्चट्टण न [उच्चर्त्तन] तुले से उमके बीज  
को अलग करना (पिठ ६०३)।

उच्चट्टण न [अपवर्त्तन] देखा उच्चट्टणा =  
अपवर्त्तना (विने २५१८)।

उच्चट्टणा स्त्री [उच्चर्त्तना] १ मरण, शरीर  
से जीव का निकलना (ठा २, ३)। २ पार्व  
का परिवर्त्तन (आव ४)। ३ जीव का एक  
प्रयत्न, जिससे कर्म-परमाणुओं की लघु स्थिति  
दीर्घ होती है, वरुण विशेष (भग ३१, ३२)।

उच्चट्टणा स्त्री [अपवर्त्तना] जीव का एक  
प्रयत्न जिसने कर्मों की दीर्घ स्थिति का हानि  
होता है (विने २७१५ टी)।

उच्चट्टिअ वि [उच्चवर्त्तित] माफ किया हुआ,  
प्रमाजित, 'करोमिण वावि उच्चट्टिए' (पिठ  
२७६)।

उच्चट्टिय वि [उच्चवृत्त] किसी गति में  
बाहर निकलना हुआ, मृत, 'आउच्चएण उच्च-  
ट्टिया समाणा' (पण १, १)।

उच्चट्टिय वि [उच्चवर्त्तित] १ जिसने किसी  
मौद्रव्य से शरीर पर का नैल बगैरह का  
मैल दूर किया हो वह, 'तमो तच्चट्टिमो'  
नेव अम्मणिओ उच्चट्टिमो उच्चत्तलउदगेहि  
पमच्चिमो' (महा)। २ प्रख्यावित, किसी पद  
में अट्ट किया हुआ (पिठ)।

उच्चट्टि वि [उच्चट्टि] बृद्धि-प्राप्त (आवम)।  
उच्चण वि [उच्चण] प्रचण्ड, उच्चट्ट (उप ५  
७०, गठ ३ धम्म ११ टी)।

उच्चत्त देखो उच्चट्ट = उच्च + वृत्। उच्चनड  
(पि २०६)। वक्त उच्चत्तंत, उच्चत्तमाण  
(मे ५, ४०, न २५८, ६२७)। वक्त  
उच्चत्तिल्लमाण (गाया १, ३)। उच्च-  
त्तियि (भवि)।

उच्चत्त देखो उच्चट्ट (दे)।

उच्चत्त सक [उच्च + वर्त्तय्] १ खडा  
करना। २ उलटा करना। उच्चत्तति (पव  
७१) सक उच्चत्तिया (वस ५, १, ६३)।

उच्चत्त वि [उच्चवर्त्त] खडा करनेवाला  
(पव ७१)।

उच्चत्त वि [उच्चवृत्त] १ उत्तान, चित्त (सि  
५, ६०)। २ उल्लसित (हे ४, ४३४)। ३  
जिसने पार्व को घुमाया हो वह (आव ३)।

४ ऊर्ध्व-स्थित, 'सो उच्चत्तिसारो संघवसभो  
जाओ' (महा)। ५ घुमाया हुआ, किराया  
हुआ (प्राण)।

उच्चत्त नि [अपवृत्त] उलटा रूपा हुआ,  
विपरीत स्थित (मे १, ६१)।

उच्चत्तण न [उच्चवर्त्तन] १ पार्व का परिव-  
र्त्तन (गा २८३, निचू ८)। २ ऊँचा करना,  
ऊर्ध्व-वर्त्तन (श्रीष १६ भा)।

उच्चत्तिय वि [उच्चत्तित] १ परिवर्त्तित, चमा-  
वा घुमा हुआ (स ८५), 'ममिय व वणतएहि  
उच्चनिय व मयलवमुहाए' (नुर १०, १६६)।  
उच्चट्ट देखा उच्चट्ट (महा)।

उच्चत्त सक [उच्च + वप्] उलटी करना,  
पीछा निकल देना। वक्त उच्चत्तन (मे ५,  
६, गा ३४१)।

उच्चत्तिय वि [उच्चान्त] उलटी किया हुआ,  
वमन किया हुआ (पाय)।

उच्चत्त सक [उच्च + वृ] जेप रहना, वच  
जाना, 'तुम्हाण वेताण जमुच्चदे देज्जाह  
उच्चण तमायरेण' (उप २११ टी)। वक्त  
उच्चत्तन (नाट)।

उच्चत्त पु [उच्च] धर्म, ताप (दे १ ८७)।

उच्चत्तिय वि [उच्च] १ अतिक, वचा हुआ,  
अवशिष्ट (दे १, १३०, पिग. गा ७७४, मुपा  
११, ५३२, श्रीष १६८ भा)। २ अनोपित,  
अनभीष्ट। ३ निश्चित। ४ अगणित। ५ न  
ताप, गरमी (दे १, १३०)। ६ वि अति-  
मान्द, उल्लसित, 'परदव्वहरणविरया निरया-  
दुहाण वे मनुच्चरिया' (मुपा ३६८)।

उच्चत्तिय न [अपवर्त्तना] कोठरी, छोटा  
घर (सुर १८, १७४)।

उच्चत्त सक [उच्च + वल्] १ उपलेपन  
करना। २ पीछे लौटना। उच्चत्तिय  
(कप)।

उच्चत्त सक [उच्च + वलय्] उच्चलन करना।  
उच्चत्तए। वक्त उच्चत्तमाण (पव ५, १६६)।

उच्चत्तण न [उच्चलन] १ शरीर का उपलेपन-  
विशेष (गाया १, १, १३)। २ मानिसा,  
अभ्यङ्गन (वृह ३, श्रीष)।

उच्चत्तणा स्त्री [उच्चलना] १ उच्चलन। २  
उच्चलन-योग्य कर्म-प्रकृति (पव ३, ३४)।

उच्चत्तिय वि [उच्चत्तित] पीछे लौटा हुआ  
(महा)।

उच्चत्तिय वि [उच्चत्त] उलटा, अति-रहित  
(मुपा १८८, ४०६)।

उच्चत्तिय वि [उच्चत्तिय] ऊपर देखो (गा  
१६४ मु. २, ११६, मु. ५४१)।

उच्चत्तिय स्त्री [उच्चत्तिय] १ एक अमरा (मण)  
२ रात्रि की एक स्वप्न-स्थान पत्नी (पउम  
७८, ८)।

उच्चत्तिय वि [उच्च + वृ] १ धारण  
करना। २ उठाना। उच्चत्तिय (महा)। वक्त  
उच्चत्तिय, उच्चत्तिय (पि ३६७ से ६, ५)।  
वक्त. उच्चत्तियमाण (गाया १, ६)।

उच्चत्तिय न [उच्चत्तिय] १ धारण। २ उच्चा-  
पन। (गठ ३ नाट)।

उच्चत्तिय न [उच्च] महान् भावेण (दे १, ११०)।

उच्चत्तिय स्त्री [उच्च] धर्म, ताप (दे १, ८७)।

उच्चत्तिय } सक [उच्च + वा] १ नृपना,  
उच्चत्तिय } शुष्क हाना। उच्चत्तिय उच्चत्तिय  
(पव, हे ४, २८०)।

उच्चत्तिय वि [उच्चत्तिय] शुष्क, सूखा (गठ ३)।

उच्चत्तिय } नि [उच्च] उच्चत्तिय, उच्चत्तिय (दे १,  
उच्चत्तिय } १०२, वृत् १, वव ४, पाय, गा  
७४८, मुपा ८३६)।

उच्चत्तिय न [उच्च] १ नील। २ उच्चत्तिय, वगीवत्  
(दे १ १३४)।

उच्चत्तिय न [उच्च] १ निरपेक्ष सुत्त। २  
मयादा-रहित मधुन (दे १, १३३)।

उच्चत्तिय वि [उच्च] १ विस्तीर्ण, विशाल। २  
दुःखरहित (दे १, १२६)।

उच्चत्तिय देखा उच्चत्तिय = उच्चत्तिय (मु. १६६)।  
उच्चत्तिय देखो उच्चत्तिय = उच्चत्तिय (मु. १, ४,  
१, २)।

उच्चत्तिय (अप) सक [उच्च + वर्त्तय्] चाग करना,  
छोड़ देना। कर्म. उच्चत्तिय (हे ४, ४३८)।

उच्चत्तिय सक [उच्च] कहना, धोतना।  
उच्चत्तिय (पव)।

उच्चत्तिय सक [उच्च + वासय्] १ दूर  
करना। २ देशनिकाला करना। ३ उच्चत्तिय  
करना। उच्चत्तिय (नाट, पिग)।

उच्चत्तिय वि [उच्चत्तिय] १ उच्चत्तिय  
किया हुआ (पउम २७, ११)। २ देश-बाहर

किया हुआ (सुपा ५४२) । ३ दूर किया हुआ (गा १०६) ।

उन्वाह पु [दे] धर्म, ताप (दे १, ८७) ।

उन्वाह पु [उद्वाह] विवाह (मै २१) ।

उन्वाह नक [उद् + वाघय्] विशेष प्रकार से पीठित करना । कवक, उन्वाहि-ज्जमाण (आचा, णाया १, २) ।

उन्वाहित वि [दे] उत्सव, फेका हुआ (दे १, १०६) ।

उन्वाहुल न [दे] १ उत्सुकता, उत्कण्ठा (भवि; दे १, १२६) । २ वि द्वेष्य, अप्रीतिकर (दे १, १३६) ।

उन्वाहुलिय वि [दे] उत्सुक, उत्कण्ठित (भवि) ।

उन्विआइअ वि [उद्वेदित] उत्पीडित (मि १३, २६) ।

उन्विह न [दे] प्रलपित, प्रनाप (पड्) ।

उन्विग्ग वि [उद्विग्न] १ खिन्न । २ भीत, घबड़ाया हुआ (हे २, ७६) ।

उन्विगिर वि [उद्वेगशील] उद्वेग करने-वाला (वाका ३८) ।

उन्विज्ज देखो उन्विय । उन्विज्ज (प्राकृ ६८), उन्विज्जति (वै ८६) । सकृ उन्विज्जअए (धर्मवि ११६) ।

उन्विड वि [दे] १ चकित, भीत । २ क्लान्त, क्लेश-युक्त (पड्) ।

उन्विडिम वि [दे] १ अधिक प्रमाण वाला । २ मर्यादा-रहित, निर्लज्ज (दे १, १३४, चउ० पत्र २६७-३६६ पद्य) ।

उन्विण्ण देखो उन्विग्ग (पि २१६) ।

उन्विद्ध वि [उद्विद्ध] १ ऊँचा गया हुआ, उच्छिन्न (परह १, ४) । २ गम्भीर, गहरा (सम ४४, णाया १, १) । ३ विद्ध, 'कोलय-सएँहि धरणियले उन्विद्धो' (सया ८७) ।

उन्विद्ध वि [उद्विद्ध] जिसकी ऊँचाई का माप किया गया हो वह (पव १५८) ।

उन्विन्न देखो उन्विग्ग (हे २, ७६, सुर ४, २४८) ।

उन्विय अक [उद् + विज्] उद्वेग करना, उदासीन होना, खिन्न होना, 'को उन्विण्ज नरवर ! मरणस्स अरस्स गतव्वे' (स १२६) । वक उन्वियमाण (स १३६) ।

उन्वियणिज्ज वि [उद्वेजनीय] उद्वेग-प्रद (पसम १६, ३६, सुपा ५६७) ।

उन्विरेयग न [उद्विरेचन] खाली करना, 'एव च भरिउन्विरेयणं कुव्वतस्स' (काल) ।

उन्विल्ल अक [उद् + वेल्] १ चलना, कांपना । २ सक वेष्टन करना । वक उन्विल्लन, उन्विल्लमाण (सुपा ८८, उप पु ७७) ।

उन्विल्ल अक [प्र + सू] फैलना, पसरना । उन्विल्लइ (भवि) ।

उन्विल्ल अक [उद् + वेल्] १ तडफड़ाना, इधर-उधर चलना, 'उन्विल्लइ समयीए देवो आसन्नचवणुव्व' (धर्मवि ११२) ।

उन्विल्ल वि [उद् + वेल्] चञ्चल, चपल (सुपा ३४) ।

उन्विहिरि वि [उद्वेलिहृ] चलनेवाला, हिलनेवाला (सुपा ८८) ।

उन्विघ अक [उद् + विज्] उद्वेग करना, खिन्न होना । उन्विलइ (पड्) ।

उन्विण्व } देखो उन्विय । उन्विण्वइ, उन्वे-उन्वेअ } अइ (प्राकृ ६८) ।

उन्विण्व वि [दे] १ क्रुद्ध, क्रोध-युक्त (पड्) । २ उद्भट वेप वाला (पाप्र) ।

उन्विह सक [उत् + व्यय्] १ ऊँचा फेंकना । २ ऊँचा जाना, उठना, 'से जहाणा-मए केइ पुरिसे उमु उन्विहइ' (पि १२६) ।

वक 'मणसावि उन्विहताइ अणोगाई आस-सयाइ पासति' (णाया १, १७ टी—पत्र २३१) । वक उन्विहमाण (भग १६) । संक उन्विहिता (पि १२६) ।

उन्विह पु [उद्विह] स्वनाम-रथात् एक आजीविक मत का उपासक (भग ८, ५) ।

उन्वी पु [उर्वी] पृथिवी (से २, ३०) । °स पु [°श] राजा (कुमा) ।

उन्वीड देखो उन्वूड (कुमा, हे १, १२०) ।

उन्वीड वि [दे] उल्लास, खोवा हुआ (दे १, १००) ।

उन्वीड वि [उद्विद्ध] उत्कण्ठित, 'तस्स उमुस्स उन्वीडस्स समाणस्स' (पि १२६) ।

उन्वील सक [अव + पीडय्] पीडा पहुँचाना, मार पीट करना । वक उन्वीले-माण (राज) ।

उन्वीलय वि [अपत्रीडक] लज्जा-रहित करनेवाला, शिष्य को प्रायश्चित्त लेने में शर्म को दूर करने का उपदेश देनेवाला (पुह) (भग २५, ७, द्र ४६) ।

उन्वुज्जमाण देखो उन्वह ।

उन्वुण्ण } वि [दे] १ उद्विग्न । २ उत्पिक्त । उन्वुन्न } ३ शून्य (दे १, १२३) । ४ उद्भट, उन्वण (दे १, १२३, सुर ३, २०५) ।

उन्वूड वि [उद् + व्यूड] १ धारण किया हुआ, पहना हुआ (कुमा) । २ ऊँचा लिया हुआ, ऊपर धारण किया हुआ (से ५, ५४, ६, ११) । ३ परिणीत, कृत-विवाह (सुपा ४५६) ।

उन्वेअणीअ वि [उद्वेजनीय] उद्वेग-कारक (नाट) ।

उन्वेग पु [उद् + वेग] १ शोक, दिलगीरी (ठा ३, ३) । २ व्याकुलता (भग ३, ६) ।

उन्वेड सक [उद् + वेष्ट्] १ बांधना । २ पृथक् करना, बन्धन-मुक्त करना । उन्वेडइ (पड्), उन्वेडिअ (आचा २, ३, २, २) ।

उन्वेडण न [उद् + वेष्टन] १ बन्धन । २ वि बन्धन-रहित किया हुआ (राज) ।

उन्वेडिअ वि [उद् + वेष्टित] १ बन्धन रहित किया हुआ । २ परवेष्टित (दे ४, ४६) ।

उन्वेत्तल न [दे] अविच्छिन्न चिह्नाना, निरन्तर रोदन (दे १, १०१) ।

उन्वेय देखो उन्वेग (कुमा, महा) ।

उन्वेयग वि [उद् + वेजक] उद्वेग-कारक (रण ४०) ।

उन्वेयणग } वि [उद्वेजनीय] उद्वेग-जनक उन्वेयणय } (आठ, परह १, १) ।

उन्वेयणय पुन [उद्वेजनीय] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २८) ।

उन्वेल् अक [प्र + सू] फैलना । उन्वेल्इ (पड्) ।

उन्वेल् वि [उद् + वेल्] उच्छलित (से २, ३०) ।

उन्वेल्डिअ वि [उद् + वेल्डित] फैला हुआ, प्रधत (माल १४२) ।

उन्वेल्ड देखो उन्वेड । उन्वेल्डइ (हे ४, २२३) । कर्म उन्वेल्डिअइ (कुमा) ।

उन्वेल्ड सक [उद् + वेल्ड्] १ सत्वर जाना । २ त्याग करना । ऊँचा उठना, ऊँचा

जाना । ४ घक फेनना, पसरना । वत्र, उब्बेहल्लत (पि १०७) ।

उब्बेहल्ल वि [उब्बेहल्ल] ? उच्छलित, उछला हुआ, 'उब्बेहल्ला मन्निर्नानी' (पउम ६, ७२) । २ प्रचन, फेला हुआ (पाय) । ३ उच्चित, 'हरिसवनुब्बेहल्लपुनयाए' (स ६२५) ।

उब्बेहल्लिअ वि [उब्बेहल्लिअ] ? कम्पित (गा ६०५) । २ उत्सारित (वृह ३) । ३ प्रसारित (न ३२५) ।

उब्बेहल्लिर वि [उब्बेहल्लिर] सत्वर जानेवाला (कुमा) ।

उब्बेह देवो उच्चित्र । उब्बेहइ (पड्) । उब्बेह देवो उब्बेह (कुमा, मुर ४, ३६, ११, १६४) ।

उब्बेहग वि [उब्बेहजक] उब्बेह कारक, 'घट्टा छिहपेही, अत्रघवाई समयम्मई चवना । वंका कोहणसीला, सीसा उब्बेहगा गुण्णा' (उव) ।

उब्बेहणय वि [उब्बेहजनक] उब्बेहजनक (पच्च ४५) ।

उब्बेहय देवो उब्बेहग (स २६२) ।

उब्बेहसर पु [उब्बेहसर] इस नामका एक राजा (कुमा) ।

उब्बेह पु [उब्बेह] ? ऊँचाई (सम १०४) । २ गहराई (ठा १०) । ३ जमीन का अवनत (ठा १०) ।

उब्बेहल्लिया स्त्री [उब्बेहल्लिका] वनस्पति विशेष (पण १) ।

उसहु वि [दे] ऊँचा (राय) ।

उसह देवो ऊसह = दे (पव २) ।

उसण पु [उसणम्] ग्रह-विशेष, शुक, भार्गव (पाय) ।

उसणसेण पु [दे] बलभद्र (दे १, ११८) ।

उसत्त वि [उत्सक्त] ऊपर बैठा हुआ (राया १, १) ।

उसत्त पु [उत्सक्त] भ्रष्ट यति-विशेष की एक जाति (स ६१) ।

उसत्पिणी देवो उत्सत्पिणी (जी ४०, विसे २७०६) ।

उसभ पुन [वृषभ] एक देव-विमान (देवेन्द्र १४०) ।

उसभ पु [वृषभ, वृषभ] ? स्वनाम-रूपान् प्रथम । जनदेव (सम ४३, कप्प) । २ वैल, जाँट (जीव ३) । ३ वेष्टन-पट्ट (पव २१६) । ४ देव-विशेष (ठा ८) । ३ ब्राह्मण-विशेष (उत्त १) । कंठ पु [कण्ठ] ? बेल का गन्ना । २ रत्न-विशेष (जीव ३) । कूड पु [कूट] पर्वत-विशेष (ठा ८) । गाराय न [नाराय] सहनन-विशेष, शरीर-बन्ध-विशेष (पच) । उत्त पु [उत्त] ब्राह्मण-कुण्ड ग्राम का रहनेवाला एक ब्राह्मण, जिसके घर भगवान् महावीर अचलने थे (कप्प) । पुर न [पुर] नगर-विशेष (विपा २, २) । पुरी स्त्री [पुरी] एक राजधानी (ठा ८) । नेण पु [नेण] भगवान् अचल-देव के प्रथम गणवर (आसू १) ।

उसर (पे) पुंस्त्री [उसर] ऊँट (पि २१६) ।

उमलिअ वि [दे] रोमाञ्चित, पुलकित (पड्) ।

उमह देवो उमभ (हे १, १३१, १३३, १८१, पड्, कुमा, मम १५२, पचम ४, ३५) ।

उसहसेण पु [वृषभमेन] तीर्थकर-विशेष । २ जिनदेव की एक गायत्री प्रतिमा (पव ५६) ।

उसना अ [उपम्] प्रभात-काल (गड्ड) ।

उसिण वि [उण्ण] गरम, तप्त (कप्प ठा ३, ६) । ३ पुन गरम स्थान (उत्त १) । ३ गरमी, ताप (उत्त २) ।

उसिय वि [उत्सूत] व्याप्त, फेला हुआ (सम १३७) ।

उसिय वि [उपित] रूखा हुआ, निवसित (से ८, ६३, भत्त १२८) ।

उसिर देवो उमीर = उशीर (सूय १, ४, २, ८) ।

उसीर न [उशीर] नुगन्धि वृण-विशेष, लथ (पण २, ५) ।

उसीर न [दे] कमल दण्ड, विस (दे १, ६४) ।

उसु पु [इपु] ? बाण, शर (सूय १, ५, १) । २ घनुरकार क्षेत्र का बाण-न्यानीय क्षेत्र परिमाण;

'वणुनग्गायो त्रियगा, जीवावगं विमोहदत्ताणं । मेसम्भ उट्टुभागे, जं मून त उमू होदं (जी १) । कार, गार, थार पु [कार] ? पर्वत विशेष (सम ६६, ठा २, ३, राय) । २ 'म नाम का एक राजा । ३ स्वनाम-न्यात एक पुनोहित (उत्त १४) । ४ वि. बाण धननिवाला (राज) । ५. स्वनाम-न्यात एक नगर (उत्त १८) ।

उसुअ पु [दे] दोष, दूषण (दे १, ८६) ।

उसुअ न [इपुक] ? बाण के आकार का एक आभूषण । २ तिनक (पिड ४२८) ।

उसुअ वि [उत्सुक] उन्नत (मुपा २२८) ।

उसुयान न [दे] उद्यमन (राज) ।

उसुयान पु [दे] परिष्ठा, शयु-न्यप वा नाय करने के लिए ऊपर में आच्छादित गर्त-विशेष (उत्त ६) ।

उम्स पु [दे] हिन, घोस, 'अमहरिणु पम्पु-म्पे' (वृह ४) ।

उत्संमलिअ वि [उत्सकलिन] निशुष्ट, परि-त्यक्त (आत्ता ७) ।

उत्सगलअ वि [उत्सकलक] उच्छल, निगुय (पि २१३) ।

उत्सग पु [उत्सङ्ग] श्रेष्ठ, कोना या कोरा (नाट) ।

उत्संघट्ट वि [उत्सवट्ट] शरीर-भयं से रहित (उप ५५५) ।

उत्सक अक [उत् + प्पक्] ? उन्नत होने । २ पीछे हटना । ३ सक न्यमित करना । सक उत्सकइत्ता । प्रयो उत्सका-वडत्ता (ठा ६) ।

उत्सक सक [उत् + प्पक्] प्रदीप्त करना, उत्तेजित करना । संट्ट उत्सकिय (आत्ता २, १, ७, २) ।

उत्सकण न [उत्पक्कण] किसी वार्यं को कुछ समय के लिये त्यगित करना (धर्म ३) । उत्सकण न [उत्पक्कण] उत्सर्ण (पवा १३ १०) ।

उत्सकिय वि [उत्पक्कित] नियत काल के बाद किया हुआ (पिड २६०) ।

उत्सग्ग पु [उत्सर्ग] ? त्याग (भाव ५) । २ सामान्य विवि (उप ७८१) ।

उत्सर्गि वि [उत्सर्गिन्] उत्सर्ग—सामान्य नियम—का जानकार (पव ६४) ।

उत्सर्गण वि [अवसन्न] निमग्न, 'अवमे उत्सर्गणा' (पएह १, ४) ।

उत्सर्गण भ्र [दे] प्राय, प्रायेण (राज) ।

उत्सर्गणहसाण्हया स्त्री [उत्सर्गणहसलक्षिणा] परिमाण-विशेष, ऊर्ध्व-रेणु का ६४ वां हिस्सा (इक) ।

उत्सर्गण देखो उत्सर्गण = दे (सूत्र २, २, ६५, तदु २७) । °भाव पुं [°भाव] बाहुव्यभाव (वर्मस ७५६) ।

उत्सर्गण वि [उत्सर्गण] निज धर्म में आलसी साधु (गुभा १२) ।

उत्सर्गण न [उत्सर्गण] १ उन्नति, पोषण । २ वि उन्नत करनेवाला, बढ़ानेवाला, 'कदम्प-द्व्यउत्सर्गणैर्वायव्याड जपए जा सो' (गुभा ५०६) ।

उत्सर्गण स्त्री [उत्सर्गणा] उन्नति, प्रभावना (उप ३२६) ।

उत्सर्गण स्त्री [उत्सर्गणा] विख्यात करना, प्रसिद्धि करना (सम्मत १६६) ।

उत्सर्गण स्त्री [उत्सर्गणा] उन्नत काल विशेष, दश कोटाकोटि-सागरोम-परिमित काल-विशेष, जिसमें सब पदार्थों की क्रमशः उन्नति होती है (सम ७२, ठा १, १, पठम २०, ६८) ।

उत्सर्गण पु [उत्सर्गण] १ उन्नति, उन्नत (विसे ३४१) । २ अहिंसा (पएह २, १) । ३ शरीर (राज) ।

उत्सर्गण न [उत्सर्गण] अभिमान, गर्व (सूत्र १, ६) ।

उत्सर्गण भ्र [उत् + स] हटना, दूर जाना । उत्सर्ग (स्वप्न ६) ।

उत्सर्ग सक [उत् + श्रि] १ ऊँचा करना । २ खड़ा करना । उत्सर्ग, संकृ उत्सर्वित्ता (कम्प) । प्रयो, संकृ. उत्सर्वित्ता (आचा २, १) ।

उत्सर्ग पु [उत्सर्व] उत्सर्व (अभि १६४) ।

उत्सर्गण स्त्री [उत्सर्गणता] ऊँचा ढेर करना, इकट्ठा करना (भग) ।

उत्सर्ग भ्र [उत् + श्रस्] १ उच्छ्वास लेना, श्वास लेना । २ उन्नतित होना । उत्स-

सर्ग (भग) । क्वकृ उत्सर्गिज्जमाण (ठा १०) ।

उत्सर्गि वि [उच्छ्वसित] १ उच्छ्वास-प्राप्त । २ उन्नतित (उत् २०) ।

उत्सर्ग स्त्री [उत्सर्ग] गैया, गौ (दे १, ८६) ।

उत्सर्ग [दे] देखो आँसा (ठा ४, ४) । °चारण पु [°चारण] श्लोक के अवलम्बन से गति करने का सामर्थ्यवाला मुनि (पव ६८) ।

उत्सर्ग सक [उत् + सारय्] १ दूर करना, हटाना । २ बहुत दिन में पाठनीय ग्रन्थ को एक ही दिन में पढ़ाना । वकृ उत्सर्गित (वृह १) । संकृ उत्सर्गित्ता (महा) । कृ उत्सर्गित्त्व (शौ) (स्वप्न २०) ।

उत्सर्ग पु [उत्सर्ग] अनेक दिन में पढ़ाने योग्य ग्रन्थ का एक ही दिन में अव्यापन । °कल्प पु [°कल्प] पाठन-सवन्वी आचार-विशेष (वृह १) ।

उत्सर्ग वि [उत्सर्ग] दूर करनेवाला । २ उत्सर्ग-कल्प के योग्य (वृह १) ।

उत्सर्गण न [उत्सर्गण] १ दूरीकरण । २ अनेक दिनों में पढ़ाने योग्य ग्रन्थ का एक ही दिन में अव्यापन, 'अरिहृद् उत्सर्गण काच' (वृह १) ।

उत्सर्गि वि [उत्सर्गित] दूरीकृत, हटाया हुआ (संथा ५७) ।

उत्सर्ग पु [उच्छ्वास] १ उसाँस, ऊँचा श्वास (पएह १) । २ प्रवल श्वास (भाव २) । °नाम न [°नामन्] उसाँस-हेतुक कर्म-विशेष (सम ६७) ।

उत्सर्गि वि [उच्छ्वासक] उसाँस लेने-वाला (विसे २७१५) ।

उत्सर्ग देखो उच्छ्वाह (सूत्रनि ६२) ।

उत्सर्गि वि [उच्छ्वाह] स्वैरी, स्वेच्छा-चारी, निरङ्कुश (उप १४६ टी) ।

उत्सर्गि वि [दे] आघ्रात, सूँघा हुआ (स २६०) ।

उत्सर्ग सक [उत् + सिच्] १ सिंचना, सेक करना । २ ऊपर सिंचना । ३ आक्षेप करना । ४ खाली करना; 'पुरणं वा नाव उत्सर्गिजा' (आचा २, ३, १, ११) । उत्सर्गि (निङ् १८) । वकृ उत्सर्गिमाण (आचा २, १, ६) ।

उत्सर्गि न [उत्सर्गि] १ सिंचन । २ कृपादि से जल वगैरह को बाहर को खींचना (आचा) । ३ मिचन के उपकरण (आचा २) ।

उत्सर्गि स्त्री [उत्सर्गि] देखो उत्सर्गिण (उत् ३०, ५) ।

उत्सर्गि देखो उत्सर्गि । संकृ उत्सर्गि (दस ५, १, ६३) ।

उत्सर्गि सक [मुच्] छोड़ना, त्याग करना । उत्सर्गि (हे ४, ६१) ।

उत्सर्गि सक [उत् + क्षिप्] ऊँचा फेंकना । उत्सर्गि (हे ४, १४४) ।

उत्सर्गि वि [मुक्त] मुक्त, परित्यक्त (कुमा) ।

उत्सर्गि वि [उत्सर्गि] १ ऊँचा फेंका हुआ । २ ऊपर रखा हुआ (स ५०३) ।

उत्सर्गि वि [उत्सर्गि] विकारान्त को प्राप्त, अचित्त किया हुआ (दस ५, २, २१) ।

उत्सर्गि वि [उत्सर्गि] उन्नत, ऊँचा किया हुआ (कम्प) ।

उत्सर्गि वि [उत्सर्गि] १ व्याप्त । २ ऊँचा किया हुआ (कम्प) ।

उत्सर्गि वि [उत्सर्गि] अहकारी (उत् २६, ४६) ।

उत्सर्गि न [उच्छ्वाह] तकिया (सुपा ४३७, गाया १, १, शोध २३२) ।

उत्सर्गि सक [उत्सर्गि] उत्कण्ठित करना, उत्सुक करना । उत्सर्गि (उत्तर ७१) ।

उत्सर्गि वि [उच्छ्वाह] शुल्क-रहित, कर-उत्सर्गि रहित (कम्प, गाया १, १) ।

उत्सर्गि वि [उत्सर्गि] उत्कण्ठित ।

उत्सर्गि न [उत्सर्गि] उत्सुकता (आवक उत्सर्गि ३६८, वर्मस ६५६, ६५७) ।

उत्सर्गि वि [उत्सर्गि] उत्सुक करना, उत्कण्ठित करना । संकृ उत्सर्गि (राज) ।

उत्सर्गि वि [उत्सर्गि] उत्कण्ठित (पठम ७६, २९, पएह २, ३) ।

उत्सर्गि वि [उत्सर्गि] सूत्र-विरुद्ध, सिद्धान्त-विपरीत (वव १, उप १४६ टी) ।

उत्सर्गि देखो उत्सर्गि (भग ५, ४, श्रौप) ।

उत्सर्गि न [उत्सर्गि] उत्कण्ठा, उत्सुकता ।

°कर वि [°कर] उत्तरगण-जनक (गाथा १, १)।

उत्सृण वि [उत्सृण] नूना हृथा, फूला हृथा (उप ५६४; गठड, स २०३)।

उत्सूर न [उत्सूर] सन्ध्या, ग्राम, 'बचामो नियनये उत्सूर वट्टए जेण' (सू ७ ६३, उप पृ २२०)।

उत्सेअ पु [उत्सेअ] १ सिञ्चन । २ उत्तति । ३ गर्व (चार ४७)।

उत्सेअम वि [उत्सेअम] आटा ने निश्चित पानी, आटा-धोया जन (कप्य, ठा ३, ३)।

उत्सेह पु [उत्सेह] °ऊँचाई (विपा १, १)।  
० गिबर, टोच (जीव : ) । ३ उत्तति, अन्धु-  
दय; 'पठणा उत्सेहा' (स ३६२)।

उत्सेहगुल न [उत्सेहगुल] एक प्रकार का परिमाण (विसे ३४० टी)।

उह स [उभ] दानों युग्म, युगन (पद्)।

उहट्ट भक [अप + घट्ट] नष्ट होना।  
उहट्टइ (मम्मन १६२)।

उहट्ट दु देवो उवयट्ट = उद + वृत् ।

उहय न [उभय] दानों, युगन (कुमा, भवि)।

उहर न [उपगृह] छोटा घर, प्राथम-विशेष (पगृ १, १)।

उहम सक [उप + हम्] उत्तान करना।  
उहसइ (प्राठ ३४)।

उहार पु [उहार] मन्त्र विशेष (राज)।

उहिजल पुं [दि] चतुर्निद्रिय जन्तु विशेष (मुत्त ३६, १४६)।

उहिजलिआ श्री [दे] उपर देखो (उत्त ३६, १४६)।

उहु (अप) देवो अहो = ग्रहो (नगु)।

उहर वि [दे] अवाट्, मुत्त, अघोमुत्त (गठड)।

॥ इय निरिपाइअसहमहणवो उगाराइसहसकनरो  
एाम पचमो तग्गो समत्तो ॥

## ऊ

ऊ पुं [ऊ] प्राकृत वर्णमाता का षष्ठ स्वर-  
वर्ण (हे १, १, प्रामा)।

ऊ भ [दे] निम्नलिखित अर्थों का सूत्रक  
अव्यय—१ गर्हा, निन्दा, 'ऊ गिल्लज'।  
२ आशेष, प्रन्तुत वाक्य के विपरीत अर्थ को  
आशका से उसे उलटाना, 'ऊ कि मए  
भरिणं'। ३ विस्मय, आश्चर्य; 'ऊ वह  
भुरिणा अहय'। ४ सूचना; 'ऊ केण ए  
विणणाय' (हे २, १६६, पद्)।

ऊअट्ट वि [अवट्ट] वृष्टि से नष्ट (पाप्र)।

ऊआ श्री [दे] युका, ऊँ (दे १, १३६)।

ऊआस पुं [उपवास] भोजनाभाव (हे १,  
१७३)।

ऊगिय वि [दे] अनकृत (पद्)।

ऊज्जाअ देखो उवज्जाय (हे १, १७३,  
प्रामा)।

ऊह देखो कूड (से १०, ७८, गा ३६३)।

ऊट वि [ऊट] वहन किया हुआ, धारण  
किया हुआ, 'ऊटकन् वण्णुणपरिमवेणु मुत्तम-  
दिरतेणु' (गठड)।

ऊह वि [ऊह] परिशील, विवाहित (धर्मसं  
१३६०)।

ऊडा श्री [ऊडा] विवाहिता श्री (पाप्र)।

ऊडिअय वि [दे] १ प्राकृत, आच्छादित।  
२ न आच्छादन, प्रावरण (पाप्र)।

ऊण वि [ऊण] नून, हीन (पट्टम ११८,  
११६); °वीमडम वि [°विगतितम] उलो-  
सर्वां (पट्टम १६, ८०)।

ऊण न [ऊण] ऊण, करजा (नाट)।

ऊणदिअ वि [दे] आनन्दित, हर्षित (दे १,  
१४१, पद्)।

ऊणिमा श्री [पूणिमा] पूर्णिमा, तमो तीर  
केव ऊणिमाए भरिऊण मंडस वहराई  
पत्थियो पारसत्त' (महा)।

ऊणिय वि [ऊणित] कम किया हुआ (ज  
२)।

ऊणिय पुं [ऊणिक] सेवक-विशेष (प्रश्नव्या०  
पत्र १३)।

ऊणोअरिआ श्री [ऊणोअरिता] वन आहार  
करना, तन-विशेष (भग २५, ७, नव २८)।

ऊतालीम } श्री न [एमेनचत्वारिंशान्]  
ऊयाल } उन्धानीठ, ३६ (कुम्ब २, ३,  
पत्र ५२, देवेन्द्र २६४)।

ऊमिगग न [दे] प्रोक्कण, उमता (धर्म २)।

ऊमिणिय वि [दे] प्रोञ्जित, जिसने न्यान  
के बाद गरीर पाछा हो वह (स ७५)।

ऊमिअ न [दे] दोनों पापों में आघात  
करना (दे १, १८२)।

ऊर पुं [दे] १ ग्राम, गाँव । २ सब, समूह  
(दे १, १४३)।

°ऊर देवो तूर (से ८, ६५)।

°ऊर देखो पूर (से ८, ६५, गा ४५, २३१)।

ऊरण पुं [ऊरण] मेप, नेड (राय, विसे)।

ऊरणी श्री [दे] मेप, नेड (दे १, १४०)।

ऊरणीअ वि [औरणिअ] नेडो चरनेवाला  
(अणु १४४)।

°ऊरय नि [पूरक] पूति कलेवाला (भवि)।

ऊरस वि [औरस] पुद्ग-विशेष, स्व-पुद्ग  
(ठा १०)।

ऊरिनकिअ वि [दे] रुद्ध, रोकना हुआ (पद्)।

ऊरी भ [ऊरो] १ अगीकार । २ विस्तार।

°कय वि [°कृत] अगीकृत, स्वीकृत (उप  
७२८ टी)।

ऊरु पुं [ऊरु] जह्वा, जाँव (गाथा १, १८)

कुमा) । °जाल न [°जाल] जाँष तक लटकने-  
वाला एक आभूपण (श्रौप) ।

ऊरुदग्ध वि [ऊरुदग्ध] जंघा-प्रमाण (गहरा  
वीरह) (पङ्) ।

ऊरुदअस वि [ऊरुद्वयस] ऊपर देखो  
(पङ्) ।

ऊरुमेत्त वि [ऊरुमात्र] ऊपर देखो (पङ्) ।  
ऊल पु [दे] गति-भग (दे १, १३९) ।

°ऊल देखो कूल (गा १८६) ।

ऊस पु [उत्स] किरण (हे १, ४३) ।

°मालि पु [°मालिन्] सूर्य (कुमा) ।

ऊत्त पु [ऊप] क्षार-भूमि की मिट्टी (पण्ण १,  
जी ४) ।

ऊसअ न [दे] उपवान, उसीसा, तकिया (दे  
१, १४०, पङ्) ।

ऊसढ वि [उत्सृष्ट] १ परित्यक्त । २ न  
उत्सर्जन, मलादि का त्याग, 'नो तत्य ऊसढ  
पकरेवा, तं जहा, उच्चार वा' (आचा २, २,  
१, ३) ।

ऊसढ वि [दे उच्छ्रित] १ उष्ण, श्रेष्ठ  
(आचा २, ४, २, ३, जीव ३) । २ ताजा;  
'भद् भद्एति वा, ऊसढ ऊसढेति वा, रतिय  
रतिए ति वा' (आचा २, ४, २, २) ।

ऊसण न [दे] गति-भङ्ग (दे १, १३६) ।

ऊसण्हसण्हिया देखो उत्सण्हसण्हिया (पव  
२५४) ।

ऊसत्त देखो उत्सत्त (कप्प, धावम) ।

ऊसत्थ पु [दे] १ जम्माई । २ वि. आकुल  
(दे १, १४३) ।

ऊसरअक [उत् + सृ] १ खिसवना । ३ दूर  
होना । ३ सक. त्यागना । ऊसरइ (भवि)  
सक ऊसरिवि (भवि) ।

ऊसर न [ऊपर] क्षार-भूमि, जिसमें वीज  
नहीं पैदा होता है, 'ऊसरदवदलियदइइइक्खना-  
एण' (मम्म १७, मत्त ७३) ।

ऊसरण न [उत्सरण] आरोग्य, 'धाण्णमरण  
तमो समुप्पयण' (विसे १२०८) ।

ऊसय पु [उच्छ्रय] १ उल्लेख, ऊँचाई । २  
उल्लेखायुग (जीवस १०४) ।

ऊसल अक [उत् + लस्] उल्लसित होना ।  
ऊसलइ (हे ४, २०२, पङ्, कुमा) ।

ऊसल वि [दे] पीन, पुष्ट (दे १, १४०) ।  
ऊसलिअ वि [उल्लसिन] उल्लसित, पाहुभूत  
ऊसलिअ वि [दे] रोमाञ्चित, पुलकित  
(दे १, १४१, पात्र) ।

ऊसव देखो उत्सव = उत्सव (स्वप्न ६३) ।  
ऊसव देखो उत्सव = उत् + श्रि । उम्मवेह  
(पि ६४, ५५१) । सक ऊसविय (कप्प,  
भग) ।

ऊसविअ वि [दे] १ उद्भ्रान्त (दे १, १४३) ।  
२ ऊँचा किया हुआ (दे १, १४३, गाय्या  
१, ८, पात्र) । ३ उद्धान, वमित (पङ्) ।

ऊसविय वि [उच्छ्रित] ऊर्ध्व-स्थित (कप्प) ।

ऊसस सक [उत् + श्वस्] १ उसांस  
लेना, ऊँचा सांस लेना । २ विकसित होना ।  
३ पुलकित होना । ऊससइ (पि ६४, ३१५) ।  
वक ऊससत्त, ऊससमाण (गा ७४,  
वण ४, पि ४६६) ।

ऊससण न [उच्छ्रवसन] उसांस । °लद्धि  
जी [°लद्धि] श्वामोच्छ्रवास की शक्ति  
(कम्म १, ४४)

ऊससिअ न [उच्छ्रवमित] १ उसांस  
(पङ्) । २ वि उल्लसित । ३ पुलकित  
(स ८३) ।

ऊससिर वि [उच्छ्रवसित्] उसांस लेने-  
वाला (हे २, १४५) ।

ऊसाअत वि [दे] खेद होने पर शिथिल  
(दे १, १४१) ।

ऊसाइअ वि [दे] १ विक्षिप्त । २ उत्क्षिप्त (दे  
१, १४१) ।

ऊसार नक [उत् + सारय्] दूर करना,  
त्यागना । उँक. ऊसारिवि (अप) (भवि) ।

ऊसार पुं [दे] गर्त-विशेष (दे १, १४०) ।

ऊसार पु [उत्सार] परित्याग (भवि) ।

ऊसार पु [आसार] बग वाली वृष्टि (हे १,  
७६, पङ्) ।

ऊसारि वि [आसारिन्] वेग से बरसनेवाला  
(कुमा) ।

ऊसारिअ वि [उत्सारित] दूर किया हुआ  
(महा, भवि) ।

ऊसास पुं [उच्छ्रवास] १ उसांस, ऊँचा  
श्वास (आचू ५) । २ मरण (बृह १) ।  
°णाम न [°नामन्] कर्म विशेष (कम्म १,  
४४) ।

ऊसासय वि [उच्छ्रवासक] उसांस लेने-  
वाला (विसे २७१४) ।

ऊसासिअ वि [उच्छ्रवासित] वावा-रहित  
किया हुआ (दे १२, ६२) ।

ऊसाह पु [उत्साह] उत्साह, उछाह (भा  
१०) ।

ऊसि सक [उत् + श्रि] ऊँचा करना, उन्नत  
करना । सक. ऊसिया (उत् १०, ३५) ।

ऊसिअक सक [उत् + अक्] ऊँचा करना ।  
सक ऊसिअकजण (भग १, ८ टी) ।

ऊसिअिअ वि [दे] प्रदीप्त, शोभायमान  
(पात्र) ।

ऊसित्त वि [उत्सित्त] १ गवित । २ उद्धत ।  
३ बढा हुआ । ४ अतिशायित (हे १, ११४) ।

ऊसित्त वि [अवसित्त] उपलित (पात्र) ।  
ऊसिय देखो उत्सिय = उच्छ्रित (श्रौप, कप्प,  
सण) ।

ऊसीम | न [उच्छ्रीर्ष, °क] उसीमा,  
ऊसीसग | मिरहाना (गाय्या १, ७, पात्र,  
ऊसीसय | मुपा ५३, १२०) ।

ऊसुअ वि [उत्सुक] उत्कण्ठि (गा ५४३,  
कुमा) ।

ऊसुअ वि [उच्छ्रुक] जहा से शुक उद्गत  
हुआ हो वह (हे १, ११५) ।

ऊसुइअ वि [उत्सुकित] उत्सुक किया हुआ  
(गा ३१२) ।

ऊसुभ अक [उत् + लस्] उल्लसित होना ।  
ऊसुभइ (हे ४, २०२) ।

ऊसुभिअ वि [उत्सित] उल्लास-प्राप्त  
(कुमा) ।

ऊसुभिअ न [दे] १ रोदन-विशेष, गता वैठ  
जाय ऐसा वदन (दे १, १४२, पङ्) ।

ऊसुअिअ वि [दे] विमुक्त, परित्यक्त (दे १,  
१४०) ।

ऊसुग देखो ऊसुअ=उत्सुक (वण ५६७ टी) ।

ऊसुग न [दे] मव्य भाग (आचा २, १,  
८, ६) ।

ऊसुम्मिअ वि [दे] उमीसा या सिरहाना  
किया हुआ (पङ्) ।

ऊसुर न [दे] ताम्बूल, पान (हे २, १७४) ।

ऊसुरुसुभिअ [दे] देखो ऊसुभिअ (दे १,  
१४२) ।



ऊह नक [ऊह] १ तर्क करना । २ विचारना । ऊहइ (विने ८३१), ऊहेमि (मुर ११, १८५) । संकृ. ऊहिऊण (आठ ५२) ।  
ऊह न [ऊयस्] न्तन (विपा १, २) ।  
ऊह पु [ऊह] १ विचार, विवेक-बुद्धि (राज) । २ तर्क, वितर्क (सूत्र २, ४) । ३

सख्या-विशेष (राज) । ४ ओष-चंज्ञा, अव्यक्त ज्ञान (विसे ५२२, ४२३) ।  
ऊहंग न [ऊहाङ्ग] सख्या-विशेष (राज) ।  
ऊहट्टु वि [हे] उपहसित (दे १, १४०) ।  
ऊहसिय वि [उपहमित] जिसका उपहास किया गया हो वह (दे १, १४०) ।

ऊहा स्त्री [ऊहा] तर्क, विचार-बुद्धि (आवम) ।  
ऊहापोह पु [ऊहापोह] सोच-विचार, मन में होनेवाला तर्क-वितर्क (कुप्र ६१) ।  
ऊहिअ वि [ऊहित] अनुमान से ज्ञात (से ६, ४२) ।  
ए पु [ए] स्वर-वर्ण विशेष (हे १, १, प्रामा) ।

॥ इम्र सिरिपाइअसहस्रमहणवे उअराइसहसकलणो  
छट्टो तरगो समत्तो ॥

## ए

ए पुं [ए] स्वर वर्ण-विशेष (हे १, १, प्रामा) ।  
ए अ [ए, ऐ] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ आमन्त्रण, सम्बोधन; 'ए एहि सबडहुत्तो मज्झ' (पठम ८, १७४) । २ वाक्यालंकार, वान्य-शोभा; 'वि जहाणाम ए' (अणु) । ३ स्मरण । ४ अनुया, ईर्ष्या । ५ अनुकम्पा, कल्याण । ६ आह्वान (हे २, २१७, भवि; गा ६०४) ।

ए नक [आ + इ] आना, आगमन करना ।  
एह (उवा) । भवि. एहिइ (उवा) । वहु एत (पठम ८, ४३, मुर ११, १४८), इत (मुर ३, १३), एज्जत (पि ५६१), एज्जमाण (उप ६४८ टी) ।

ए° देखो एत्तिअ (उवा) ।

ए° देखो एघ (उवा) ।

एअ वि [एत्] आया हुआ, आगत (सम्मत् ११६) ।

एअ स [एत्त] यह (भग, हे १, ११, महा) ।  
°रिस वि [°इरा] ऐसा, इसके जैसा (द्र ३०) । °रुव वि [°रुप] ऐसा, इन प्रकार का (शाया १, १, महा) ।

एअ देखो एग (गठड, नाट; न्वज ६०, १०६) । °आइ वि [°किन्] अकेला (अनि १६०, प्रति ६५) । °रह वि व [°इशन्] ग्यारह की संख्या, दश और एक (पि २४५) । °रहम वि [°दश] ग्यारहवाँ (भवि) ।

एअ देखो एव = एव (कुमा) ।

एअ } देखो एघ; 'एअ वि सिरिअ दिट्टुआ'  
एअ } (से ३, ४६, गठड, पिग) ।

एअत देखो एअत (वेणी १८) ।

एआइस (अप) पु व [एअविशति]  
एक्कीस (पिग) ।

एयारिच्छ वि [एताच्छ] ऐसा, इसके जैसा (प्रामा) ।

एइज्जमाण देखो एय = एज्ज ।

एइय वि [एजित] कम्पित (राय ७४) ।

एइस देखो एईस (मुख २, १७) ।

एईस वि [एताइश] ऐसा (विसे २५४६) ।

एउजि (अप) अ [एवमेव] १ इसी तरह ।  
२ यही (भवि) ।

एऊण देखो एगूण (पिग) ।

एत देखो इ = इ ।

एंत देखो ए = आ + इ ।

एक देखो एक तथा एग (पड्, सम ६६, पठम १०३, १७२, हेका ११६, परह २, ५, पठम ११४, २४, सुपा १६५, कप्प; सम ७१, १५३) । °इआ अ [°दा] एक समय में, कोई वक्त (हे २, १६२) । °ल (अप) वि [°क] एकाकी (पि ५६५) । °लिय वि [°किन्] एकाकी, अकेला (उप ७२८ टी) । °णउइ स्त्री [°नवति] संख्या-विशेष, एकानवे (सम ६५, पि ४३५) ।

एकूण देखो अउण = एकोण (सुज्ज १६) ।

एक देखो एक तथा एग (हे २, ६६, मुपा १४३, सम ६६, ५५, पठम ३१, १२८, गठड, कप्प; मा १८, सुपा ४८६, मा ४१, पि ५६५, नाट, शाया १, १, गा ६१८, काल, मुर ५, २४२, भग; सम ३६, पठम २१, ६३, कप्प) । °वए देखो एगपए (गठड, मुर १, ३८) । °सणिय वि [°श-निक] एक ही वार भोजन करनेवाला (परह २, १) । °सत्तरि स्त्री [°सप्तति] सख्या-विशेष, ७१, एकहत्तर (सम ८२) । °सरग, °सरय वि [°सरक, °सर्ग] एक नमान, एक सरीखा (उवा; भग १६, परह २, ५) । °सि अ [°शस्] एक वार, 'सव्वजहल्लो उदथो दमणुणियो एक्कसि कयाए' (भग), 'एक्कसि कयो पमायो जीव पाडेइ भवनमु हम्मि' (मुर ८, ११२); 'एक्कसि सीलकलंकि-अह देज्जहि पच्छिताइ' (हे ४, ४२८) । °सि अ [°त्र] एक (किसी एक) में, 'एक्कसि न सु विरो सिति पिओ कीहवि उवालदो' (कुमा) । °सि, °सिअ अ [°दा] कोई एक समय में (हे २, १६२) । °सि अ [°शस्] एक वार (पि ४५१) । °इ वि [°किन्] अकेला (प्रयी २३) । °इ पु [°दि] स्वनाम-ख्यात एक माण्डलिक (सूवा) (विपा १, १) । °णउय वि

[°नवत] ६१ वां (पञ्च ६१, ३०) ।  
 °रमम वि [°दश] ग्यारहवां (विा १,  
 १, उवा, सुर ११, २५०) । °रह वि व  
 [°दशन्] ग्यारह, दश और एक ( पङ् ) ।  
 °सीड स्त्री [°शीति] सख्या-विशेष, एकासी  
 (सम ८८) । °सीड्विह वि [°शीतिविध]  
 एकानी तरह का (पण १, १७) । °सीय वि  
 [°शीत] एकासीवां, ८१ वां (पञ्च ८१,  
 १६) । °त्तरसय वि [°त्तरशततम] एक  
 सौ एक वां, १०१ वां (पञ्च १०१, ७६) ।  
 °ोयर पु [°ोदर] सहोदर भाई, सगा भाई  
 (पञ्च ६, ६०, ४६, १८) । °ोयरा स्त्री  
 [°ोदरा] सगी बहिन (पञ्च ८, १०६) ।

एक वि [एकक] अकेला (हेका ३१) ।

एक वि [दे] स्नेह-भर, प्रेम-तत्पर (दे १,  
 १४४) ।

एकडे (अप) वि [एकाकिन] एकाकी,  
 अकेला (भवि) ।

एकग न [दे] चन्दन, सुगन्धि काष्ठ-विशेष  
 (दे १, १४४) ।

एककत पु [एकान्त] १ सर्वथा । २ तत्त्व,  
 प्रमेय । ३ जल, अवश्य । ४ असहायता,  
 विशेष (मे ४, २३) । ५ निर्जन, निराला (गा  
 १०२) । देखो एगत ।

एककक वि [एकैक] हर एक, प्रत्येक  
 (नाट) ।

एककककम [दे] देखो एककैककम (मे ५,  
 ५६) ।

एकगसिस्थ न [एकसिस्थ] तपो-विशेष  
 (पव २७१) ।

एककग देखो एग-ग = एक-क (कुप्र ७६) ।

एककघरिह पु [दे] देवर, पति का छोटा  
 भाई (दे १, १४६) ।

एकगण्ड पु [दे] कथक, कथा कहनेवाला (दे  
 १, १४५) ।

एकमुह वि [दे] १ धर्म-रहित, निवर्मा । २  
 दरिद्र, निर्धन । ३ प्रिय, इष्ट (दे १, १४८) ।

एकमेक वि [एकैक] प्रत्येक, हर एक  
 (हे ३, १, पङ्, कुमा) ।

एकह वि [दे] प्रवल, बलवान (पङ्) ।

एकहपुडिग न [दे] विरल-विन्दु-वृष्टि, अल्प  
 विन्दुवाली वारिष् (दे १, १४७) ।

एकसरिअ अ [दे] १ शीघ्र, तुरन्त । २  
 सप्रति, भाजकल (हे २, २१३, पङ्) ।

एकसिरिआ अ [दे] शीघ्र, जलदी (प्राक  
 ८१) ।

एकसाहिल वि [दे] एक स्थान में रहने-  
 वाला (दे १, १४६) ।

एकसिबली स्त्री [दे] शाल्मली-पुष्पो से नूतन  
 फलवाली (दे १, १४६) ।

एकसेस देखो एग-सेस (अणु १४७) ।

एकह देखो एग (प्राक ३५) ।

एकार देखो एकारह (कम्म ६, १६) ।

एकार पु [अयस्कार] लोहार (हे १, १६६,  
 कुमा) ।

एकी स्त्री [एका] एक (स्त्री) (निचू १) ।

एककूण देखो अउण (पि ४४५) ।

एकैकम वि [दे] परस्पर, अन्योन्य (दे १,  
 १४५), 'मुहडा एकैककम अपेच्छता' (पञ्च  
 ६८, १५) ।

एकैह } देखो एग (प्राक, ३५) ।  
 एकौह }

एग स [एक] १ एक, प्रथम-सख्या (अणु) ।

२ एकाकी, अकेला (ठा ४, १) । ३ अद्वितीय  
 (कुमा) । ४ असहाय, नि सहाय (विपा १,  
 २) । ५ अन्य, दूसरा, 'एवमेग वदति मोसा'  
 (पण १, २) । ६ समान, सदृश, तुल्य  
 (उवा) । ७ इय देखो एग, 'अत्येगइयाए  
 नेरइयाए एग पलिओवम ठिई पन्नत्ता' (सम  
 २, ठा ७, औप) । ८ इय वि [°क] अकेला,  
 एकाकी (भग) । ९ ओ अ [°तस्] एक  
 तरफ (कप्प) । १० क्खरिय वि [°त्तरिक]  
 एक अक्षरवाला (नाम) (अणु) । ११ रधी  
 स्त्री [°स्कन्ध] एक स्कन्धवाला (वृक्ष वर्ग-रह)  
 (जीव ३) । १२ खुर वि [°खुर] एक खुरवाला  
 (गौ वर्ग-रह पशु) (पण १) । १३ ग वि  
 [°क] एकाकी, अकेला (आ १४) । १४ ग  
 वि [°प्र] तल्लीन, तत्पर (सुर १, ३०) ।  
 १५ चक्खु वि [°चक्षुष्क] एक आँखवाला,  
 एकाक्ष, काना (पण २, ५) । १६ चत्ताल वि  
 [°चत्वारिंश] एकतालीसवां (पञ्च ४१,  
 ७६) । १७ चर वि [°चर] एकाकी विहरने-  
 वाला (भाचा) । १८ चरिया स्त्री [°चर्या]  
 एकाकी विहरना (भाचा) । १९ चारि वि

[°चारिन्] अकेल-विहारी (सूम १, १३) ।  
 °चूड पुं [°चूड] विद्याधर वंश का एक  
 राजा (पञ्च ५, ४५) । °च्छत्त वि  
 [°च्छत्र] १ पूर्ण प्रभुत्ववाला, अकण्टक,  
 'एगच्छत्त ससागर भुजिऊए वमुह' (पण २,  
 ४) । २ अद्वितीय (काप्र १८६) । °जडि  
 वि [°जटिन्] महाग्रह-विशेष (ठा २, ३) ।  
 °जाय वि [°जात] अकेला, निस्सहाय;  
 'खग्गविसाए व एगजाए' (पण २, ५) ।  
 °ट्ट वि [°स्थ] इकट्ठा, एकत्रित (भग १४,  
 ६, उप पृ ३४१) । °ट्ट वि [°र्थ] एक  
 अर्थवाला, पर्याय-शब्द (श्रीव १ भा) । °ट्ट,  
 °ट्ट अ [°त्र] एक स्थान में, 'मिलिया मग्गेवि  
 एगट्ट' (पञ्च ४७, ४४) । °ट्टिय वि  
 [°र्थिक] एक ही अर्थवाला, समानार्थक,  
 पर्याय-शब्द (ठा १) । °ट्टिय वि [°स्थिक]  
 जिसके फल में एक ही बीज होता है ऐसा  
 ग्राम वर्ग-रह का पेड़ (पण १) । °णासा स्त्री  
 [°नासा] एक दिक्कुमारी, देवी-विशेष  
 (भाव १) । °त्त न [°त्र] एक ही स्थान  
 में, 'एगत्ते ठिमो' (स ४७०) । °त्थ देखो  
 °ट्ट (मम्म १०६, निचू १) । °नाना देखो  
 °णासा (ठा ८) । °पए अ [°पदे] एक  
 ही साथ, युगपत् (पि १७१) । °पक्ख वि  
 [°पक्ष] १ असहाय (राज) । २ ऐकान्तिक,  
 अविच्छेद (सूअ १, १२) । °पन्नास स्त्री  
 [°पञ्चाशन्] एकावन, पचास और एक ।  
 °पन्नासइम वि [°पञ्चाशत्तम] एकावनवां,  
 ५१ वां (पञ्च ५१, २८) । °पाइअ वि  
 [°पादिक] एक पाँव ऊँचा रखनेवाला  
 (आतापना में) (कस) । °पासग वि  
 [°पाशर्वक] एक ही पारख की भूमि से  
 सम्बन्ध रखनेवाला (आतापना में) (पण  
 २, १) । °पामिय वि [°पाशर्वक] देखो  
 पूर्वोक्त अर्थ (कस) । °भत्त न [°भक्त]  
 व्रत-विशेष, एकासन (पचा १२) । °भूय वि  
 [°भूत] १ एकीभूत, मिला हुआ (ठा १) ।  
 २ समान (ठा १०) । °मण वि [°मन्स्]  
 एकाप्रचित्त, तल्लीन (सुर २, २२६) ।  
 °मेग वि [°एक] प्रत्येक, हर एक (सम  
 ६७) । °य वि [°क] एकाकी, अकेला  
 (दस ५) । °य वि [°ग] अकेला जानेवाला  
 (उत्त ३) । °यर वि [°तर] दो में से कोई

भी एक ( पङ् ) । °या अ [°ठा] एक समय में (प्रा. नव २४) । °राद्य वि [°रात्रिक] एक-रात्रि-नम्बन्वी, एक रात में होनेवाला (सम २१, मुर ६, ६०) । °राय न [°रात्र] एक रात (ठा ५, २) । °ह्र वि [एक] एकाकी, अकेला (ठा ७, मुर ४, ५४) । °विह वि [°विध] एक प्रकार का (नव ३) । °विहारि वि [°विहारिन] एक-विहारी, अकेला विचरनेवाला (वृह १) । °वीसडम वि [°विशतितम] एकवीसवां (पठम २१, ८१) । °वीसा स्त्री [°विशति] एकवीस (पि ४४५) । °सट्ट वि [°पष्ट] एकमठवा, ६१ वा (पठम ६१, ७५) । °मट्टि स्त्री [°पष्टि] एकसठ (सम ७५) । °सत्तर वि [°सप्तत] एकहत्तरवां, ७१ वा (पठम ७१, ७०) । °समडय वि [°सामयिक] एक समय में होनेवाला (भग २४, १) । °सरिया स्त्री [°सरिमा] एकावली, हार-विशेष (ज १) । °साडिय वि [°शाटिक] एक बन्न-वाला, 'एगमाडियमुत्तरासग करेड' (कम्प, राया १, १) । °सिअ अ [°दा] एक समय में (पङ्) । °सेल पु [°शैल] पर्वत-विशेष (ठा २, ३) । °सेलकूड पुन [°शैलकूट] एकशैल पर्वत का शिखर-विशेष (ज ४) । °सेम पृ [°शेष] व्याकरण-प्रसिद्ध समास-विशेष (अणु) । °हा अ [°वा] एक प्रकार का (ठा १) । °हुत्त अ [°सकृत्] एक बार (प्रामा) । °णिअ वि [°किन] अकेला (कस, अथो २८ भा) । °टस वि व [°टशन] ग्यारह । °टसुत्तरसय वि [°टशोत्तरशततम] एक गौ ग्यारहवां, १११ वां (पठम १११, २८) । °भोग पु [°भोग] एक-वचन (निच १) । °मोस वि [°मर्श] १ प्रत्यु-फेसण का एक दोष, वस्त्र को मध्य में ग्रहण कर दोनों अक्षरों को हाथ से घसीट कर उठाना (भाष २६७) । °ग्रय वि [°ग्रयत] एकत्र सबद्ध (कम्प) । °रस देखो °टस (पि ४३५) । °रसी स्त्री [°टशी] त्रि-विशेष, एकादशी (कम्प, पठम ७३, ३४) । °वण्ण स्त्री [°पञ्चागत] एकावन (पि २६५) । °वलि, °ली स्त्री [°वलि,

ली] विविध प्रकार की मणियों से ग्रथित हार (औष) । °वलीपविभत्ति न [°वलीप्रवि-भक्ति] नाटक-विशेष (गम) । °वाइ पुं [°वादिन्] एक ही आत्मा वगैरह पदार्थ को माननेवाला दर्शन, वेदान्त-दर्शन (ठा ८) । °वीम स्त्री [°विशति] संख्या-विशेष, एकवीस (पठम २०, ७०) । °सण न [°गन, °गमन] व्रत विशेष, एकाशन (वर्म ०) । °ह पुन [°ह] एक दिन (आचा २, ३, १) । °ह्र वि [°ह्रय] एक ही प्रहार से नष्ट हो जानेवाला (भग ७, ६) । °हिय वि [°हिक] १ एक दिन का उत्पन्न । २ पु ज्वर-विशेष, एकान्तर ज्वर (भग ३, ७) । °हिय वि [°धिक] एक से ज्यादा (पच) । देखो एअ, एक और एक । एगत देखो एकत (ठा ५, सूत्र १, १३, अथ ५५, पचा ५, १०) । °ट्टि स्त्री [°ट्टि] १ जैनेतर दर्शन । २ वि जैनेतर दर्शन को माननेवाला (सूत्र २, ६) । ३ स्त्री निश्चित सम्पत्त्व, निरचल सत्य-श्रद्धा (सूत्र १, १३) । °ट्टसमा स्त्री [°ट्टपमा] अवसर्पणी-काल का छठवां और उत्सर्पणी-काल का पहला आरा, काल-विशेष (सूत्र १, ३) । °पडिय पु [°पण्डित] साधु, सयत (भग) । °वाल पु [°वाल] १ जैनेतर दर्शन को माननेवाला । २ अनयन जीव (भग) । °वाइ वि [°वादिन्] जैनेतर दर्शन का अनुयायी (राज) । °वाय पुं [°वाट] जैनेतर दर्शन (मुपा ६५८) । °सुसमा स्त्री [°सुपमा] काल विशेष, अवसर्पणी काल का प्रथम और उत्सर्पणी काल का छठवां आरा (एदि) ।

एगतिय वि [°एगन्तिक] १ अवश्यभावी (विसे) । २ अद्वितीय, 'एगतिय कम्मवाहि-श्रोसह' (स ५६२) । ३ जैनेतर दर्शन (सम्म १३०) ।

एगतिय न [°एकान्तिक] निव्यात्व का एक भेद—वस्तु को सर्वथा क्षणिक आदि एक ही दृष्टि से देखना (सत्रोव ५२) ।

एगट्टि देखो एग्ग-सट्टि (देवेन्द्र १३६, मुज्ज १२) ।

एगट्टिया स्त्री [°दि] नौका, जहाज (राया १, १६) ।

एगठाण न [°एकरथान] एक प्रकार का तप (पव २७१) ।

एगिन्डिय वि [°एकेन्द्रिय] एक इन्द्रियवाला, केवल स्पर्श-इन्द्रियवाला (जीव) (ठा ७) ।

एगीमूत वि [°एकीमूत] मिला हुआ, एकता-प्राप्त (मुपा ८६) ।

एगूण देखो अउण । °चत्ताल वि [°चत्वा-रिंश] उनचालीमवा (पठम ३६, १३४) ।

°चत्तालीस स्त्री [°चत्वारिंशत्] उनचालीस (सम ६६) । °चत्तालीसडम वि [°चत्वा-रिंशत्तम] उनचालीसवां (सम ८६) । °णउड स्त्री [°नवति] नवासी (पि ४४४) । °तीस स्त्री [°त्रिंशत्] उनतीस, २६ । °तीमडम वि [°त्रिंशत्तम] उनतीसवां, २६ वां (पठम २६, ४६) । °नउड देखो °णउड (सम ६४) ।

°नउय वि [°नवत] नवासीवां (पठम ८६, ६५) । °पन्न, °पन्नाम स्त्री [°पञ्चागत] उनचाम (सम ७०, भग) । °पन्नास वि [°पञ्चाश] उनपचासवां (पठम ४६, ४०) ।

°पन्नासडम वि [°पञ्चाशत्तम] उनपचा-सवां (सम ६६) । °वीस स्त्री [°विशति] उन्नीस (सम ३६, पि ४४४, राया १, १६) । °वीमड स्त्री [°विगति] उन्नीस (सम ७३) । °वीसडम, °वीसडम, °वीसम वि [°विशतितम] उन्नीसवां (राया १, १८, पठम १६, ४५, पि ४४६) । °सट्ट वि [°पष्ट] उनसठवां ५६ वां (पठम ५६, ८६) । °सत्तर वि [°सप्तत] उनमत्तरवां (पठम ६६, ६०) । °सी, °सीइ स्त्री [°शीति] उन्नासी (सम ८७, पि ४४८, ४४६) । °सीय वि [°शीत] उन्नासीवां, ७६ वां (पठम ५६, ३५) । देखो अउण ।

एगूरुय पु [°एकुरुक] १ इस नाम का एक अन्तर्दोष । २ वि उसका निवासी (ठा ४, २) ।

एग्ग (अप) देखो एग (पिग) ।

एज पु [°एज] वायु, पवन (आचा) ।

एजणया स्त्री [°एजना] कम्प, कांपना (सुयनि १६६) ।

एज्ज देखो एय् = एज् । वृत्त एज्जमाण (राय ३८) ।

एज्जत देखो ए = भा + इ ।

एज्जण न [°आयन] आगमन (वव ३) ।

एज्जमाण देखो ए = आ + इ ।

एड सक [ एड् ] छोड़ना, त्याग करना ।  
एडेड (भा) । कवक. एडिज्जमाण (राया १, १६) । सक एडित्ता (भग) । कृ एडंयव्व (राया १, २) ।

एड नक [ एडय् ] हटाना, दूर करना ।  
एडेह, सक एडेत्ता (राय १ =) ।

एडक पु [ एडक ] मेघ, भेड (उप पृ २३४) ।  
एडया स्त्री [ एडका ] भेडो (पड्) ।

एण पु [ एण ] वृष्य मृग, हरिण (कप्पू) ।  
°णाहि स्त्री [ °नाभि ] कल्लूरो (कप्पू) ।

एणक पु [ एणाङ्क ] चन्द्र, चन्द्रमा (कप्पू) ।  
एणिज्ज वि [ एणेय ] हरिण-मंत्रन्वी, हरिण का (मास वौरह) (राज) ।

एणिज्जय पृ [ एणेयक ] स्वनाम-ख्यात एक राजा, जिन्होंने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (ठा ८) ।

एणिम पु [ एणिस ] वृक्ष-विशेष (उप १-३१ टी) ।

एणी स्त्री [ एणी ] हरिणी (पाप्र, परह १, ४) ।  
°यार पुं [ °चार ] हरिणी को चरानेवाला, उनका पोषण करनेवाला (परह १, १) ।

एणुवासिअ पुं [ टे ] मेक, मेडक (दे १, १४७) ।  
एणेज्ज देखो एणिज्ज (विपा १, ८) ।

एण्हं } अ [ इदानीम् ] अधुना, सप्रति  
एण्हि } (महा) हे २, १३४) ।

एताव देखो एत्तिअ = एतावत्, 'एतावं नर-लोत्रो' (जीवस १८७) ।

एत्तअ वि [ इयत्, एतावत् ] इतना (अभि ५६, स्वप्न ४०) ।

एत्तए देखो इ = इ ।

एत्ताहि (अप) अ [ इतस् ] वहा से (कुमा) ।  
एत्तहे देखो एत्तहे (कुमा) ।

एत्ताहे देखो इत्ताहे (हे २, १३४, कुमा) ।  
एत्तिअ } वि [ इयत्, एतावत् ] इतना  
एत्तिल } (हे २, १५७) । °मत्त, °मेत्त  
वि [ °मात्र ] इतना ही (हे १, ८१) ।

एत्तिक (शौ) देखो एत्तिअ = एतावत् (प्राकृ ६५) ।

एत्तुल (अप) ऊपर देखो (हे ४, ४०८, कुमा) ।  
एत्तूण अ [ टे ] अधुना, इस समय (प्राकृ ८०) ।  
एत्तो देखो इओ (महा) ।

एत्तोअ अ [ टे ] यहां मे लेकर (दे १, १४४) ।  
एत्थ अ [ अत्र ] यहा, यहा पर (उवा, गउड, चारु १०३) ।

एत्थी देखो इत्थी (उप १०३१ टी) ।  
एत्थु (अप) देखो एत्थ (कुमा) ।

एदपज्ज न [ ऐदपर्य ] ताल्यं, भावार्थ (उप ८५६ टी) ।

एदिहासिअ (शौ) वि [ ऐतिहासिक ] इति-हास-सम्बन्धी (प्राप) ।

एदह देखो एत्तिअ (हे २, १५७, कुमा, काप्र ७७) ।

एम (अप) अ [ एव ] इम तरह, ऐमा (पड् पिा) ।

एमड (अप) अ [ एवमेव ] इन्ही तरह, ऐमा ही (पड्, वज्जा ६०) ।

एमाइ } वि [ एवमादि ] इत्यादि, वगैरह  
एमाइय } (सुर ८, २६, उव) ।

एमाण वि [ टे ] प्रवेश करता हुआ (दे १, १४४) ।

एमिणिआ स्त्री [ टे ] वह स्त्री, जिसके शरीर को, किसी देश के रिवाज के अनुसार, सूत के धागे से माप कर उस धागे को फेंक दिया जाता है (दे १, १४५) ।

एमेअ } अ [ एवमेव ] इन्ही तरह, इसी  
एमेव } प्रकार 'ता भए कि करणिज्ज एमेअ ए वासरो ठाइ' (काप्र २६, हे १, २७१) ।

एम्व (अप) अ [ एवम् ] इस तरह, इस प्रकार (हे ८, ४१८) ।

एम्वइ (अप) अ [ एवमेव ] इसी तरह, इस प्रकार (हे ४, ४२०) ।

एम्वहिं (अप) अ [ इदानीम् ] इस समय, अधुना (हे ४, ४२०) ।

एय अक [ एज् ] १ कांपना हिलना । २ चलना । एयइ (कप्प) । वकृ एयत (ठा ७) । प्रयो., कवक, एज्जमाण (राज) ।

एय पु [ एज ] गति, चलन (भग २५, ४) ।  
एयंत देखो एक्कत (पउम १५, ५८) ।

एयण न [ एज्ज ] कम्प, हिलन, 'निरियणं भाण' (आव ४) ।  
एयणा स्त्री [ एज्जना ] १ कम्प । २ गति, चलन (सुअ २, २, भग १७, ३) ।

एयणिं देखो इयणिं (रभा) ।

एयावत् वि [ एतावत् ] इतना (आचा) ।  
एरड पु [ एरण्ड ] १ वृक्ष-विशेष, रेंड, अडी, एरण्ड का पेड़ (ठा ४, ४, राया १, १) ।

२ तृण-विशेष (परण १) । °मिजिया स्त्री [ °मिजिया ] एरण्ड-फल (भग ७, १) ।

एरड वि [ एरण्ड ] एरण्ड-वृक्ष-सम्बन्धी (पयादि) (दे १, १२०) ।

एरडइय } पु [ दे ] पागल कुत्ता, 'एरडए  
एरडय } साणे एरडइयसाणेत्ति हडक्क-पित' (वृह १) ।

एरण्णवय न [ एरण्यवत् ] १ क्षेत्र-विशेष (सम १२) । २ वि उम क्षेत्र मे रहनेवाला (ठा २) ।

एरवई स्त्री [ ऐरावती, अजिरवती ] नदी-विशेष (राज: कस) ।

एरवय न [ ऐरवत् ] १ क्षेत्र-विशेष (सम १२, ठा २, ३) । २ पुं. पर्वत-विशेष (ठा १०) ।

एरवय वि [ ऐरवत् ] ऐरवत् क्षेत्र का (सुज १, ३) ।

एरवय वि [ ऐरवत् ] ऐरवत् क्षेत्र का रहने-वाला (अण) । °कूड न [ °कूट ] पर्वत-विशेष का शिखर-विशेष (ठा १०) ,

एराणी स्त्री [ दे ] १ इन्द्राणी व्रत का सेवन करनेवाली स्त्री (दे १, १४७) ।

एरावई स्त्री [ ऐरावती ] नदी-विशेष (ठा ५, २, पि ४६५) ।

एरावण पुं [ ऐरावण ] १ इन्द्र का हाथी, जो कि इन्द्र के हस्ति-मैत्र्य का अविपत्ति देव है (ठा ५, १, प्रयो ७८) । °वाहण पु [ °वाहन ] इन्द्रवाहन (उप ५३० टी) ।

एरावय पु [ ऐरावत् ] १ हृद-विशेष (राज) । २ हृद-विशेष का अविपत्ता देव (जीव ३) । ३ छन्द-शास्त्रप्रसिद्ध पञ्चकला प्रस्तार मे आदि के ह्रस्व और अन्त के दो गुरु अक्षरो का संकेत (पिग) । ४ लकुच वृक्ष । ५ सरल और लम्बा इन्द्र-धनुष । ६ इरावती नदी का समीपवर्ती देश । ७ इन्द्र का हाथी (हे १, २०८) ।

एरिसि वि [ ईदृश ] इस तरह का, ऐसा (आचा, कुमा; प्रासू २१) ।

एरिसिअ (अप) ऊपर देखो (पिग) ।

एल वि [दे] कृशाल, निपुण (दे १, १८४) ।  
 एल } पु [एड, एल] १ मृगो की एक  
 एलग } जाति (विपा १, ४) । २ भेप मेड  
 (नृय २, २) । ३ मूअ, मूग वि [मूक]  
 १ मूक, मेड की तरह अव्यक्त बोलनेवाला,  
 'जलएलमूअम्ममणअभिनियवयएणएणो दोत्ता'  
 (आ १२, दस ५, आब ४, निडू ११) ।

एलगच्छ न [एलमच्छ] स्वनाम-न्यायत नगर-  
 विशेष (उप २११ टी) ।

एलय देखो एल (उवा, पि २४०) ।

एलविल वि [दे] १ वनाड्य, वनी । २ पुं  
 वृत्त, वैन (दे १, १४८, पड्) ।

एला श्री [एला] १ इलायची का पेड (से ७,  
 ६०) । २ इलायची-फल (मुर १३, ३३) ।

३ रस पु [रस] इलायची का रस (परह  
 २, ५) ।

एलालुय पुन [एलालुक] आलू की एक  
 जाति, कन्द-विशेष (अनु ६) ।

एलावच्च न [एलापत्य] मारुडव्य गोत्र का  
 एक शाखा-गोत्र (ठा ७) ।

एलावच्च वि [एलापत्य] एनापत्य-गोत्र का  
 (एदि ४६) ।

एलावच्चा श्री [गलापत्या] पत्त की तीनरो  
 रात (चद १०, १४) ।

एलिन्म वि [ईट्त्] ऐसा (उत्त ७, २२) ।

एलिंघ पु [एलिङ्ग] धान्य-विशेष (परह १) ।

एलिया श्री [एडिका, एलिमा] १ एक जात  
 की मृगी । २ भेटिया (हे ३, ३२) ।

एलिस देखो एरिम (नृय १, ६, १) ।

एलु पुं [एलु] वृक्ष-विशेष (उप १०३१ टी) ।

एलुग } पुन [एलुक] देहली, द्वार के नीचे  
 एलुय } की लकड़ी (जीव ३, आचा २) ।

एह वि [दे] दरिद्र, निर्वन (द १, १७४) ।

एव म्र [एव] इन ग्रथों का सूचक अव्यय — १  
 अय्यारण, निग्रय (ठा ३, १, प्रामू १६) । २  
 साहय्य, तुल्यता । ३ चार-नियोग । ४ निग्रह ।  
 ५ परिभव । ६ म्रत्य, थोडा (हे २, २१७) ।

एव देखो एव (हे १, २६, पजम १५, २८) ।

एवइ वि [इयत्, एतावत्] इतना ।  
 १ पुत्तो म्र [०ट्त्वस्] इतनी बार (कप्प) ।

एवइय वि [इयत्, एतावत्] इतना (कप्प,  
 वित्ते ४४४) ।

एवं म्र [एवम्] इस तरह, इस रीति से,  
 इस प्रकार (सूअ १, १, हे १, २६) । १ भूअ  
 पुं [भूत्] १ व्युत्पत्ति के अनुमार उभ क्रिया  
 से विशिष्ट अर्थ को ही शब्द का अभिवेय  
 मानानेवाला पद (ठा ७) । २ वि इस तरह  
 का, एवं-प्रकार (उप ८७७) । ३ विघ, विह  
 वि [विघ] इस प्रकार का (हे ४, ३२३,  
 काल) ।

एवहास पुं [एवहास] इतिहास (गच्छ  
 ८०२) ।

एवड (अप) वि [इयन्] इतना (हे ४,  
 ४०८, कुमा, भवि) ।

एवमाइ देखो एमाइ (परह १, ३) ।

एवमेव } देखो एमेव (हे १, २७१, उवा) ।  
 एवामेव }

एवव देखो एव (पड्, अभि ७२, स्वप्न १०) ।

एवव देखो एव = एव (अभि १३, स्वप्न ४०) ।

एववहि (अप) म्र [इदानीम्] इन नमय,  
 अधुना (पड्) ।

एववारु पु [इयार्] ककडी (कुमा) ।

एस सक [इप्] १ इच्छा करना । २  
 खोजना । ३ प्रकाशित करना । एसइ (पिंड  
 ७५) ।

एस सक [आ + इप्] करना, 'तम्हा  
 विणयमेसिजा' (उत्त १, ७, मुख १, ७) ।

एस सक [आ + इप्] १ खोजना, शुद्ध  
 भिक्षा की खोज करना । २ निर्दोष भिक्षा का  
 ग्रहण करना । एसति (आचा २, ६, २) ।

वक्क, एसमाण (आचा २, ५, १) । सक  
 एसित्ता, एसिया (उत्त १, आचा) । हेह  
 एसित्तए (आचा २, २, १) ।

एस वि [एण्य] १ नावी पदार्थ, होनेवाली  
 वस्तु (आव ५) । २ पु भविष्य काल (दसनि  
 १), 'अकयव संपइ गए कह कीरड, किह व  
 एसमि' (वित्ते ४२२) ।

३ एस देखो देस, 'भण को ए वस्तइ जणो  
 पवियजतो अएमवालमि' (गा ४००) ।

एसग वि [एपक] अन्वेषक, गवेषक (आचा) ।

एसज्ज न [एय्वर्य] वैभव, प्रभुत्व, सपत्ति  
 (ठा ७) ।

एसण न [एपण] १ अन्वेषण, खोज । २  
 ग्रहण (उत्त २) ।

एसणा श्री [एपणा] १ अन्वेषण, गवेषण,  
 खोज (आचा) । २ प्राप्ति, लाभ, 'विसएसणं  
 क्रियायति' (सूअ १, ११) । ३ प्रार्थना (सूअ  
 १, २) । ४ निर्दोष आहार की खोज करना  
 (ठा ६) । ५ निर्दोष भिक्षा (आचा २) । ६  
 इच्छा, अभिलाष (पिंड १) । ७ भिक्षा का  
 ग्रहण (ठा ३, ४) । ८ समिइ श्री [समिति]  
 निर्दोष भिक्षा का ग्रहण करना (ठा ५) ।  
 ९ समिय वि [समित] निर्दोष भिक्षा को  
 ग्रहण करनेवाला (उत्त ६, भग) ।

एसणिज्ज वि [एपणीय] ग्रहण-योग्य (शाया  
 १, ५) ।

एसि वि [एपिन्] अन्वेषक, खोज करनेवाला  
 (आचा) ।

एसिय वि [एपिक] १ खोज करनेवाला,  
 गवेषक । २ पु व्याघ । ३ पाखरिड-विशेष  
 (सूअ १, ६) । ४ मनुष्यों की एक नीच  
 जाति (आचा २, १, २) ।

एसिय वि [एपित] गवेषित, अन्वेषित (भग  
 ७, १) । २ निर्दोष भिक्षा (वव ४) ।

एसिय वि [एपित] भिक्षा-चर्या की विधि से  
 प्राप्त (सूअ २, १, ५६) ।

एससरिय देखो एसज्ज (उव) ।

एह अक [एव्] वढ़ना, उन्नत होना । एहइ  
 (पड्) । प्रयो, कवक. 'दीसति दुहम् एहता  
 (दस ६) ।

एह (अप) वि [ईट्क्] ऐसा, इसके जैसा  
 (पड्, भवि) ।

एहत्तरि (अप) श्री [एकसप्तति] सत्या-  
 विशेष, ७१ (पिण) ।

एहा श्री [एघस्] समिय, इन्वन (उत्त १२,  
 ४३, ४४) ।

एहिअ वि [एहिक] इस जन्म-सवन्वी (भोध  
 ६२) ।

॥ इय त्तिरिपाईअसहमहणवो एय्याराइमहसकलणो  
 सत्तमो तरगो समत्तो ॥

## ऐ

ऐ अ [अयि] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ संभावना । २ आमन्त्रण, संवोधन । ३

प्रश्न । ४ अनुराग, प्रीति । ५ अनुनय; 'ऐ  
वीहेमि, ऐ उम्मात्ति' (हे १, १६६) ।

॥ इअ सिरिपाइअसदमहण्णवे ऐआराइसदसकलणो  
अट्टमो तरंगो समत्तो ॥

## ओ

ओ पु [ओ] स्वर वर्ण-विरोध (हे १, १,  
प्राप्ता) ।

ओ देखो अव = अप (हे १, १७२, प्राप्ता;  
कुमा, पङ्) ।

ओ देखो अव (हे १, १७२, प्राप्ता; कुमा,  
पङ्) ।

ओ देखो उव (हे १, १७२, कुमा) ।

ओ देखो उव = उत (हे १, १७३, कुमा) ।

ओ अ [ओ] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ वितर्क । २ प्रकोप, विस्मय (प्राक् ७८) ।

ओ अ [ओ] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ सूचना, 'ओ अविरणयतत्तिल्ले' । २ पश्चा-  
त्ताप, अनुताप, 'ओ न मए छाया इत्तिमाए'  
(हे २, २०३, पङ्, कुमा; प्राप्ता) । ३  
संवोधन, आमन्त्रण (नाट—चैत ३४) ।  
४ पादपूर्ति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय  
(पचा १, विसे २०२४) ।

ओअ न [दे] वार्ता, कथा कहानी (दे १,  
१४६) ।

ओअअ वि [अपगत] अपसृत, 'ओअअअव-'  
(पि १६५) ।

ओअक पु [दे] गर्जित, गर्जना (दे १, १५४) ।

ओअद सक [आ + छिद्] १ बलात्कार से  
छीन लेना । २ नाश करना । ओअदइ (हे ४,  
१२५, पङ्) ।

ओअदणा स्त्री [आच्छेदना] १ नाश । २  
जवरदस्ती छीनना (कुमा) ।

ओअक्ख सक [हृ] देखना । ओअक्खइ  
(हे ४, १८१, पङ्) ।

ओअग्ग मक [वि + आप्] व्याप्त करना ।  
ओअग्गइ (हे ४, १४१) ।

ओअग्गिअ वि [व्याप्त] विस्तृत, फैला  
हुआ (कुमा) ।

ओअग्गिअ वि [दे] १ अभिभूत, परिभूत ।  
२ न. केश वगैरह को एकत्रित करना (दे १,  
१७२) ।

ओअग्घिअ } वि [दे] घात, सूँघा हुआ  
ओअधिअ } (दे १, १६२, पङ्) ।

ओअण्ण वि [अवनत] नमा हुआ, नीचे की  
तरफ मुड़ा हुआ (से ११, ११८) ।

ओअत्त वि [अपवृत्त] श्रौंवा किया हुआ,  
उलटा किया हुआ, ओअत्ते कुंमपुहे जललव-  
करणिआवि कि ठाइ ?' (गा ६५४) ।

ओअत्तअ वि [अपवर्तितव्य] १ अपवर्तन-  
योग्य । २ त्यागने योग्य, छोड़ने लायक;  
'कुसुमम्मि व पच्चाअए भमरोअत्तअम्मि'  
(से ३, ४८) ।

ओअम्मअ वि [दे] अभिभूत, पराभूत  
(पङ्) ।

ओअर सक [अव + तृ] १ जन्म-ग्रहण  
करना । २ नीचे उतरना । ओअरइ (हे ४,  
८५) । वहु ओअरत (शोध १६१, सुर  
१४, २१) । हेहू. ओअरिउ (प्राक्) । क  
ओअरियव्व (सुर १०, १११) ।

ओअरण न [उपकरण] साधन, सामग्री (गा  
६८१) ।

ओअरण न [अवतरण] उतरना, नीचे आना  
(गउड) ।

ओअरय पुं [अपवरक] कमरा, कोठरी (सुपा  
४१५) ।

ओअरिअ वि [अवतीर्ण] उतरा हुआ (पाम्) ।

ओअरिअ वि [औदरिक] पेट-भरा, पेट, उदर  
भरने मात्र की चिन्ता करनेवाला (शोध  
११८ मा) ।

ओअरिया स्त्री [अपवरिका] कोठरी, छोटा  
कमरा (सुपा ४१५) ।

ओअइ देखो ओवट्ट = अप + वृत् । ओअइइ  
(प्राक् ७०) ।

ओअइ अक [अव + चल्] चलना ।  
ओअइइति (पि १६७, ४८८) । वहु ओअ-  
इइत (पि १६७, ४८८) ।

ओअइ पु [दे] १ अपचार, खराब आचरण,  
अहित आचरण (पङ्, स ५२१) । २ कम्प,  
कापना (पङ्, दे १, १६५) । ३ नौश्री का  
बाढा । ४ वि पर्यस्त, प्रक्षिप्त । ५ लम्बमान,  
लटकता हुआ (दे १, १६५) । ६ जिसकी  
आँखें निमीलित होती हो वह, 'मुच्छिज्जतो-  
अह्मा अक्कता पिअअमहिहरेहि पवगा' (से  
१३, ४३) ।

ओअइअ वि [दे] विप्रलब्ध, प्रवारित (पङ्) ।

ओअव सक [साधय्] साधना, वश में  
करना, जीतना; 'गच्छाहि ए भो देवाणु-

पिन्ना । सिवृण महाणइए पञ्चत्विमिल्ल  
रिक्कुड सन्निधुनागरगिम्बिराग समविसमणि-  
क्कुडाणि अ ओअवेहि' (ज ३) । सक्क  
ओअवेत्ता (ज ३) ।

ओअवण न [साधन] विजय, वग करना,  
न्यायत करना (ज ३—पत्र ०४८) ।

ओआअ पु [दे] १ ग्रामावीश, गाँव का  
न्यामी । २ आना, आदेश । ३ हन्ती वगैरह  
को पकडने का त्तं । ४ वि अपहृत, छीना  
हुआ (दे १, १६६) ।

ओआअव पु [दे] अन्त-समय (दे १, १६०) ।  
ओआर नक [अप + वारय्] ढाकना,  
'कह नुज हत्येण ओआगेत्ति' (मं ४६) ।

ओआर पु [अपकार] अतिष्ठ, हानि, क्षति  
(कुमा) ।

ओआर पु [अवतार] १ अवतारण (ठा १,  
गड्ड) । २ अवतार, देहान्तर-वारण (पड्) ।  
३ उपात्ति, जन्म, 'अच्चन्तमणोयारो जत्य  
जरारोगवाहीण' (स १३१) । ४ प्रवेश  
(विमे १०४०) ।

ओआर देखो उवयार (पड्) ।

ओआरण न [अवतारण] उतारना, अवतारित  
करना (दे ४, ४०) ।

ओआरिअ वि [अवतारित] उतारा हुआ  
(से ११, ९३, उप ५६७ टी) ।

ओआल पु [दे] छोटा प्रवाह (दे १, १५१) ।

ओआली स्त्री [दे] १ खड्ग का दोप । २  
पत्ति, श्रेणी (दे १, १६४) ।

ओआयल पु [दे] बालातप, मुवह का सूर्य-  
ताप (दे १, १६१) ।

ओआस देखो अवगास (हे १, १७२, कुमा,  
००), 'अम्हारिखाण सुदर । ओआसो कत्य  
पावाण' (काप्र ६०३) ।

ओआस देखो उववास (हे १, १७३, प्राह) ।

ओआहिअ वि [अवगाहित] जिसका  
अवगाहन किया गया हो वह (से १, ८, ८,  
१००) ।

ओइध सक [आ + मुच्] १ छोड़ देना,  
त्यागना, फेंक देना । २ उतार कर रख देना,  
'तो उज्जिक्कण लज्जे ओइधइ क्कुय सरीराओ'  
(पउम ३४, १६), 'तहेव य ऋडत्ति परिव-  
डीए ओइधइ ति' (आक ३८) ।

ओइणग वि [अवतीर्ण] उत्तरा हुआ (पाप्र,  
गा ६३) ।

ओइत्त } न [दे] परिवान, वक्र (दे १,  
ओइत्तग } १५५) ।

ओइह वि [दे] आलठ (दे १, १५८) ।

ओउठण न [अवगुण्ठन] स्त्री के मुँह पर  
का वन्ध, घूँघट (अभि १६८) ।

ओउहिय वि [दे] पुरस्कृत, आगे किया हुआ  
(पड्) ।

ओउल न [अवचूल] लडकता हुआ बस्या-  
ञ्जल, प्रालम्ब (पाप्र), 'मरगयलवतमोत्तिओ-  
उल' (पउम ८, २८२) । देखो ओचूल ।

ओ अ [ओम्] प्रणव, मुख्य मन्त्राक्षर (पडि) ।

ओकार पु [ओङ्कार] 'ओ' अक्षर (उत २५  
३१) ।

ओगण अक [अवयण] अव्यक्त आवाज करना ।  
ओगणइ (प्राक ७३) ।

ओव देखो उव । ओवइ (हे ४, १२ टि) ।

ओडल न [दे] केश-गुम्फ, केश-रचना,  
बम्मिल्ल (दे १, १५०) ।

ओडुर देखो उंदुर (पड्) ।

ओवाल सक [द्याय] टकना, आच्छादित  
करना । ओवालइ (हे ४, २१) ।

ओवाल सक [पनाय] १ डुबाना । २  
व्यास करना । ओवालइ (हे ४, ४१) ।

ओवालिअ वि [द्यायित] ढका हुआ (कुमा) ।

ओवालिअ वि [प्लावित] १ डुबाया हुआ ।  
२ व्यास (कुमा) ।

ओरुवण देखो उक्कवण (आचा २, २, ३,  
१ टी) ।

ओरुच्छिअ देखो उक्कच्छिआ (पव ६२) ।

ओरुड्ड वि [अपवृष्ट] १ नीचा हुआ । २  
न अपकर्षण, नीचाव (उत १६) ।

ओरुड्डग देखो उक्कड्डग (परह १, ३) ।

ओकरग पुं [अवकरक] विष्ठा (मन ३०) ।

ओकम सक [अव + कृप्] १ निमग्न  
होना, गड जाना । २ लोचना । ३ वह  
जाना । वक्क ओरुसमाण (कस) ।

ओकयत वि [अवक्रान्त] निराकृत, पराजित,  
'परवाईहि अणेक्कता अरणउत्तिएहि  
अणाइसिन्नमाणा विहरति' (श्रीप) ।

ओकदी देखो उक्कदी (दे १, १७४) ।

ओक्की स्त्री [दे] वृक्षा, जूँ (दे १, १५६) ।

ओक्किअ न [दे] १ वास, वसन, अवस्वान ।  
२ वमन, उन्नी (दे १, १५१) ।

ओक्कयच नक [आ + कृप्] लोचना ।  
कर्म 'जह जह ओक्कयचइ, तह तह वेचं  
पणिणहमारोण । भवव । तुरगमेणं, इहाणिओ  
आसमे तुम्ह' (मुर ११, ५१) ।

ओक्कयड सक [अव + खण्डय्] तोडना,  
भागना । क ओक्कयडेअव्व (से १०, २६) ।

ओक्कयडिअ वि [दे] आक्रान्त (दे १, ११२) ।

ओक्कयद देखो अवक्कयद (मु १०, २१०,  
पउम ३७, २६) ।

ओक्कयल देखो उक्कयल (कुमा, प्राप्र) ।

ओक्कयली [दे] देखो उक्कयली (दे १, १७४) ।

ओक्कयमाण (शो) वि [भविष्यन्] भविष्य  
मे होनेवाला, भावी (प्राक ६६) ।

ओक्कियण वि [दे] १ अवकीर्ण । २  
खरिडत, खूणित (कम, दे १, १३०) । २  
छन्न, टका हुआ । ३ पारवर्ष में शिथिल  
(दे १, १३०) ।

ओक्कियत वि [अवचिप्त] फेंका हुआ (कस) ।

ओगच देखो ओक्कयच ।

ओगस देखो अवगस । क. ओगमिडव्व  
(श्री) (मा ४८) ।

ओगप वि [उपगत] प्राप्त (मूअ १, ५,  
२, १०) ।

ओगर देखो ओगर (पिण) ।

ओगलिअ वि [अवगलित] गिरा हुआ,  
विसका हुआ (ता २०५) ।

ओगसण न [अपकसन] हान (राज) ।

ओगहिअ वि [अवगृहीत] उपान, गृहीत  
(ठा ३) ।

ओगाड वि [अवगाड] १ आश्रित, अधिष्ठित  
(ठा २, २) । २ व्याप्त (एया १, १६) ।

३ निमग्न (जा ४) । ४ गमीर, गहरा (पउम  
२०, ६५, ने ६, २६) ।

ओगास पु [अवकाश] जगह, स्थान (विमे  
१३६ टी) ।

ओगास पु [अवकाश] मार्ग, रास्ता (सुव  
२, २१) ।

ओगाह सक [अव + गाह्] पाँव से चलना ।  
वक्क ओगाहंत (पिड ५७५) ।

ओगाह सक [अव + गाह] अवगाहन करना। ओगाह (पङ्)। वक्र ओगाह (भाव २)। सक ओगाहइत्ता, ओगाहित्ता (दस ५, मग ५, ४)।  
 ओगाहण न [अवगाहन] अवगाहन (भा)। ओगाहणा स्त्री [अवगाहना] ? आघार-भूत आकाश-क्षेत्र (ठा १)। २ शरीर (मग ६, ८)। ३ शरीर परिमाण (ठा ५, १)। ४ अवस्थान, अवस्थिति (विसे)। °णाम न [°नामन्] कर्म-विशेष (मग ६, ८)। °णाम पु [°नाम] अवगाहनात्मक परिणाम (मग ६, ८)।  
 ओगाहिम वि [अवगाहिम] पक्वान्त (पंचा ५)।  
 ओगिञ्च १ सक [अव + ग्रह] ? आश्रय ओगिण्ह १ लेना। २ अनुज्ञा-पूर्वक ग्रहण करना। ३ जानना। ४ उद्देश करना। ५ लक्ष्य कर कहना। ओगिण्ह (मग, कप्य)। सक ओगिञ्चिय, ओगिण्हइत्ता, ओगिण्हित्ता, ओगिण्हित्ताण (आचा; णाया १, १, कस; उवा)। क ओघेत्तञ्च (कप्य पि ५७०)।  
 ओगिण्हण न [अवग्रहण] सामान्य ज्ञान-विशेष, अवग्रह (एदि)।  
 ओगिण्हणया स्त्री [अवग्रहणता] ? ऊपर देखो (एदि)। २ मनो विषयीकरण, मन से जानना (ठा ८)।  
 ओगिण्ह देखो ओगिण्ह। सक ओगिण्हित्ता (निर १, १)।  
 ओगुडिय वि [अवगुण्डित] लिप्त (वृह १)। ओगुट्टि स्त्री [अपकृष्टि] अपकर्ष, हलकाई, तुच्छता (पचम ५६, १५)।  
 ओगुहिय वि [अवगूहित] आलिगित (णाया १, ६)।  
 ओगर पु [ओगर] वान्य विशेष, स्त्री-विशेष (पिग)।  
 ओगह देखो उग्गह (सम्म ७५, उव; वस, स ३५, ५६८)।  
 ओगह सक [प्रति + ङ्पु] ग्रहण करना। ओगहइ (प्राक ७३)।  
 ओगहण देखो ओगिण्हण। °पट्टण पुन [°पट्टक] जैन मन्त्रियों के पढ़ने का एक उच्चाच्चादक वक्र, जाधिया, लंगोट (कस)।

ओगहिय वि [अवगृहीत] ? अवग्रह-ज्ञान से जाना हुआ, अवग्रह का विषय। २ अनुज्ञा से गृहीत। ३ वक्र, वंघा हुआ (उवा)। ४ देने के लिए उठाया हुआ (श्रीप)।  
 ओगहिय वि [अवग्रहिक] अनुज्ञा से गृहीत, अवग्रहवाला (श्रीप)।  
 ओगारण न [उद्गारण] उद्गार (चार ७)।  
 ओगाल पु [दे] छोटा प्रवाह (दे १, १५१)।  
 ओगाल मक [रोमन्याय] पुराना, चवाई हुई वस्तु का पुन चवाना। ओगालइ (हे ४, ४३)।  
 ओगालि वि [रोमन्यायितृ] पुरानेवाला, चवाई हुई वस्तु का पुन चवानेवाला (कुमा)।  
 ओगाह देखो उग्गाह = उद् + ग्रह्य। ओगाहइ (प्राक ७२)।  
 ओगिअ वि [दे] अभिमूत, परामूत (दे १, १५८)।  
 ओग्गीअ पु [दे] हिम, वर्ष (दे १, १५६)।  
 ओग्य देखो उग्घड। ओग्घइ (प्राक ७१)।  
 ओग्यसिय वि [अववर्षित] प्रमाणित, साफ-सुवरा किया हुआ (राय)।  
 ओघ पु [ओघ] ? ममूह, सघात (णाया १, ५)। २ समार, 'एते ओघ तरिन्सति ममुह ववहारिणो' (सूत्र १, ३)। ३ अविच्छेद अविच्छिन्नता (परह ६, ४)। ४ सामान्य, साधारण। सणगा स्त्री [°सज्ञा] सामान्य ज्ञान (परण ७)। °देस पुं [°देज] सामान्य विवक्षा (मग २५, ३)। देखो ओह = ओघ।  
 ओघट्टि (श्री) वि [अवघट्टित] आहत (प्रयो २७)।  
 ओघसर पु [दे] ? घर का जल-प्रवाह। २ अनर्थ, खराबी, नुकसान (दे १, १७०, सुर २, ६६)।  
 ओघसिय देखो ओग्यसिय।  
 ओघाययण न [ओघायतन] ? परम्परा से पूजा जाना स्थान। २ तनाव में पानी जाने का साधारण रास्ता (आचा २, १०, २)।  
 ओघेत्तञ्च देखो ओगिण्ह।  
 ओचार पु [दे अपचार] वान्य रखने की

वही कोठी—मिट्टी का पात्र-विशेष (अणु १५१)।  
 ओचिदी (श्री) स्त्री [ओचित्ती] उचितता, श्रीचित्य (रंभा)।  
 ओचुव सक [अव + चुम्ब] चुम्बन करना। सक ओचुविऊण (भवि)।  
 ओचुल न [दे] बुल्हा का एक भाग (दे १, १५३)।  
 ओचूल } देखो ओऊल (विपा १, २, सुर }  
 ओचूलग } ३, ७०)। २ मुख से हटा हुआ शिथिल—ढीला (वक्र), 'ओचूलगनियन्धा' (जं ३—पत्र २५५)।  
 ओच्चय देखो अवचय (महा)।  
 ओच्चिया स्त्री [अवचायिका] तोड़ कर (फूलों को) इकट्ठा करनेवाली (गा ७६७)।  
 ओच्चेर न [दे] ऊपर-भूमि। २ जघन के रोम (दे १, १३६)।  
 ओच्छअ } वि [अवस्तृत] ? आच्छादित।  
 ओच्छइय } २ निरुद्ध, रोका हुआ (परह १, ४, गउड, म १६४)।  
 ओच्छदिअ वि [दे] ? अपहृत। २ व्यधित, पीड़ित (पङ्)।  
 ओच्छण वि [अवच्छन्न] आच्छादित, ढका हुआ, 'एणचोउगो असोगो ओच्छएणो साजखलेण' (सम १५२)। देखो ओच्छन्न।  
 ओच्छत्त न [दे] दन्त-धावन, दावन (दे १, १५२)।  
 ओच्छन्न देखो ओच्छण (म ११२, श्रीप)। २ अवपृथ्व, आक्रान्त (आचा)।  
 ओच्छर (श्री) मक [अव + स्तृ] ? विद्याना, फैलाना। २ आच्छादित करना, ढांकना। ओच्छरीअदि (नाट—उत्तम १०५)।  
 ओच्छविय } वि [अवच्छादित] आच्छा-  
 ओच्छाइय } दित, ढका हुआ, 'गुच्छलयारु-  
 क्तप्रुम्मवल्लिगुच्छओच्छाइय मुरम्म वेमार-  
 गिरिकडगपायमूल' (णाया १, १—पत्र २५, २८ टी, महा, म १५०)।  
 ओच्छाइवि नीचे देखो।  
 ओच्छाय सक [अव + द्याद्य] आच्छादन करना। सक ओच्छाइवि (भवि)।  
 ओच्छायण वि [अवच्छादित] ढांकना, पिवान (स ५५७)।  
 ओच्छाहिय देखो उच्छाहिय।



‘ओच्छाहिओ परेण व लद्धि-  
पसनाहि वा समुत्तइओ ।  
अवमारिओ परेण य जो  
एसइ मारणपिओ सो ॥’  
(पिड ४६५) ।

ओच्छिअ न [दे] केश-विवरण (दे १,  
१५०) ।

ओच्छिअण वि [अचच्छिअ] आच्छादित;  
‘पत्तेहि य पुक्केहि य ओच्छिअणपतिच्छिअण’  
(जीव ३) ।

ओच्छुंड सक [आ + क्रम्] १ आक्रमण  
करना । २ गमन करना । ओच्छुदति (से  
१३, १६) । कर्म ओच्छुदइ (से १०,  
५५) ।

ओच्छुण वि [आक्रान्त] १ दवाया हुआ ।  
२ उल्लिखित, ‘ओच्छुणएणदुग्गमपहा’ (मे १३,  
६३, १५, १३) ।

ओच्छोअ न [दे] घर की छत के प्रान्त  
भाग से गिरता पानी,  
‘रक्खेइ पुत्तअ मत्वएण  
ओच्छोअअ पट्टिच्छेती ।  
अनूहि पट्टिअपरिणी ओलि-  
ज्जेत ए लक्खेइ’ (गा ६२१)

ओजिअअ अक [आ] वृत्त होना । ओजिअइ  
(प्राक ६५) ।

ओज्जर वि [दे] भीर, डरपोक (पह) ।

ओज्जल देखो उज्जल (दे) ।

ओज्जल्ल वि [दे] वनवान्, प्रवल (दे १,  
१५८) ।

ओज्जाअ पु [दे] गजित, गर्जरव (दे १,  
१५४) ।

ओज्ज वि [दे] मैला, अशुद्ध, चोखा नहीं  
वह (दे १, १५८) ।

ओज्जत देखो ओज्जा = अय + घ्या ।

ओज्जमण न [दे] पलायन, भाग जाना (दे  
१, १०३) ।

ओज्जत पु [निर्मत] करना, पवंत से  
निकलता जन-प्रवाह (गा ६४०, हे १, ६८,  
कुमा; महा) ।

ओज्जरिअ [दे] देखो उज्जरिअ (दे १,  
१३३) ।

ओज्जरी जी [दे] ओक, आत का आवरण  
(दे १, १५७) ।

ओज्जा सक [अप + ध्या] खराब चिन्तन  
करना । कवक, ओज्जत (भवि) ।

ओज्जा देखो अउज्जा (उप पु ३७४) ।

ओज्जाय देखो उज्जाय (कुमा, प्राक) ।

ओज्जाय वि [दे] दूसरे को प्रेरणा कर  
हाय से लिया हुआ (दे १, १५६) ।

ओज्जावग देखो उज्जाय (उप ३५७ टी) ।

ओट्ट पु [ओट्ट] ओठ, अवर (पउम १,  
२४, स्वप्न १०४; कुमा) ।

ओट्टिय वि [औट्टिक] उट्ट-सम्बन्धी, उट्ट  
के बालो से बना हुआ (कस, स ५८६) ।

ओट्टइह वि [दे] अनुरक्त, रागी (दे १,  
१५६) ।

ओट्ट पु [ओट्ट] १ उत्कल देश । २ वि  
उत्कल देश का निवासी, उडिया (पिंग) ।

ओट्टिय वि [ओट्टीय] उत्कल-देशीय (पिंग) ।

ओट्टण न [दे] ओठन, उत्तरीय, चादर  
(दे १, १५५) ।

ओट्टिगा ली [दे] ओठनी (स २११) ।

ओट्टण न [दे] अवगुणन (प्राक ३८) ।

ओण देखो ऊण = ऊन (रंमा) ।

ओणंअ नक [अव + नन्द] अमिनन्दन  
करना । कवक ओणद्विजमाण (कप्य) ।

ओणम अक [अव + नम्] नीचे नमना ।  
वह ओणमंत (से १, ४५) । सक, ओण-  
मिअ, ओणमिऊण (आचा २, निबू १) ।

ओणय वि [अवनत] १ नमा हुआ (सुर २,  
४६) । २ न नमस्कार, प्रणाम (सम २१) ।

ओणइ अक [अव + लम्] लटकना,  
‘किसकलावु खंघे ओणल्लइ’ (भवि) ।

ओणविअ वि [अवनमित] नमामा हुआ,  
अवनत किया हुआ (गा ६३५) ।

ओणाम सक [अव + नमय] नीचे नमाना,  
अवनत करना । ओणामेहि (मृच्छ ११०) ।  
संक्र ओणामित्ता (निबू) ।

ओणामणी ली [अवनामनी] एक विद्या,  
जिसके प्रभाव से वृद्ध वगैरह स्वयं फनादि  
देने के लिए अवनत होते हैं (उप पु १५५,  
निबू १) ।

ओणामिय } वि [अवनमित] अवनत किया  
ओणामिय } हुआ (से ५, ३६, ६, ४, गा  
१०३, भवि) ।

ओणित्त अक [अपनि + वृत्] पीछे  
हटना, वापिस आना । वक ओणित्तंत  
(से २, ७) ।

ओणित्त वि [अपनिवृत्त] पीछे हटा हुआ,  
वापिस आया हुआ (से ५, ५८) ।

ओणिमिअ वि [अवनिमीलित] मुदित, मुँदा  
हुआ (से ६, ८७, १३, ८२) ।

ओणियट्ट देखो ओनियट्ट (पि ३३३) ।

ओणियव्व पु [दे] वल्मीक, चींटियों का  
खुदा हुआ मिट्टी का ढेर (दे १, १५१) ।

ओणीवी ली [दे] नीवी, कटि-सूत्र (दे १,  
१५०) ।

ओणुणअ वि [दे] अमिमूत, परामूत (दे १,  
१५८) ।

ओणिअ न [औनिअय] निद्रा का अभाव-  
‘ओणिएह दोव्वल्ल’ (काप्र ८५, दे १,  
१६७) ।

ओणिय वि [औणिक] ऊन का बना हुआ,  
ऊर्ण-निर्मित (कस) ।

ओणेअ वि [उपनेय] साचे में ढाल कर  
बना हुआ फूल आदि, साँचे से बनता मोम का  
पुतला; ‘आउट्टिमज्जिकल ओणो (१ रो)  
उज पीलिम च रंग च’ (दसनि २, १७) ।

ओत्तलहअ पुं [दे] विटप (दे १, ११६) ।

ओत्ताण देखो उत्ताण (विक्र २८) ।

ओत्थ सक [स्थग्] ढकना । ओत्थइ (प्राक  
६५) ।

ओत्थअ वि [अवस्तृत] १ फैना हुआ, प्रसृत  
(से २, ३) । २ आच्छादित, पिहित, ‘सम-  
तओ अत्थय गयण’ (आवम, दे १, १५१;  
स ७७, ३७६) ।

ओत्थअ वि [दे] अवसन्न, खिल (दे १,  
१५१) ।

ओत्थइअ देखो ओच्छइअ (गा ५६६, से  
८, ६२, स ५७६) ।

ओत्थर देखो ओच्छर । ओत्थरइ (पि ५०५;  
नाट) ।

ओत्थर पु [दे] उत्साह (दे १, १५०) ।

ओत्थरण न [अवस्तरण] विद्यैना (पउम  
४६, ८४) ।

ओत्थरिअ वि [अवस्तृत] १ विद्याया हुमा ।  
 २ व्याप्त (से ७, ४७) ।  
 ओत्थरिअ वि [दे] १ आक्रान्त । २ जो  
 आक्रमण करता हो वह (दे १, १६६) ।  
 ओत्थल्ल देखो उत्थल्ल = चत् + म्त् । ओत्थ-  
 झइ (प्राक ७५) ।  
 ओत्थल्लपत्थल्ल देखो उत्थल्लपत्थल्ल (दे  
 १, १२२) ।  
 ओत्थाडिय वि [अवस्तृत] विद्याया हुमा  
 (मवि) ।  
 ओत्थार सक [अव + स्तारय्] आच्छादित  
 करना । कर्म, ओत्थारिज्जति (स ६६८) ।  
 ओदइय देखो ओदइय (अज्ज १३६) ।  
 ओदइय पुंन [औदयिक] १ उदय, कर्म-  
 विपाक (भग ७, १४, विसे २१७४) । २ वि  
 उदय निष्पन्न (वित्ते २१७४, सूत्र १, १३) ।  
 ३ पुं कर्मोदय रूप भाव, 'कम्मोदयसहावो  
 सव्वो असुहो सुहो य ओदइओ' (वित्ते ३४६४) ।  
 ४ वि उदय होने पर होनेवाला (वित्ते  
 २१७४) ।  
 ओदञ्च न [औदात्य] उदात्तता, श्रेष्ठता  
 (प्राह) ।  
 ओदञ्ज न [औदार्य] उदारता (प्राह) ।  
 ओदण न [ओदन] भात, रीषा हुमा चावल  
 (पण्ह २, ५, ओष ७१४; चार १) ।  
 ओदरिय वि [औदरिक] पेट-भरा, पेट भरने  
 के लिए हो जो साधु हुमा हो वह (निच्च १) ।  
 ओदइण न [अवदहन] तप्त किए हुए लोहे  
 के कोश वगैरह से दागना (राज) ।  
 ओदारिय न [औदार्य] उदारता (प्राह) ।  
 ओइ वि [आट्टे] नीला (प्राह २०) ।  
 ओइपिअ वि [दे] १ आक्रान्त । २ नट  
 (दे १, १७१) ।  
 ओइंस सक [अव + ध्वंस] १ गिराना ।  
 २ हटाना । ३ हराना । क्वक 'परवाइहि  
 भणोक्कता अरणसत्थिएहि अणोद्धसिज्ज-  
 माणा विहरति' (श्रौप) ।  
 ओंधाव सक [अव + धाव्] पीछे ढोढना ।  
 ओंधावइ (महा) ।  
 ओधुण देखो अवधुण । कर्म ओधुव्वति (पि  
 ५३६) । सक ओधुणिअ (पि ५२१) ।  
 ओधूअ वि [अवधूत] कम्पित (नाट) ।

ओधूसरिअ वि [अवधूसरित] बूसर रंग-  
 वाला, हलका पीला रंगवाला (से १०,  
 २१) ।  
 ओनडिय वि [अवतटित] भ्रवणित, तिर-  
 क्त, 'चंचुओनडियअरणपह' (मम्मत्त २१४) ।  
 ओनियट्ट वि [अवनिवृत्त] देखा ओणि-  
 अत्त = अपनिवृत्त (कण्) ।  
 ओपल्ल वि [दे] अपदीर्घं, कुरिठत्त, 'त्ते  
 ए से तेतलिपुत्ते नीलुप्पल जाव अंसि खवे  
 ओहरति, तल्यवि य से धारा ओपल्ला' (एगाया  
 १, १४) ।  
 ओप्प वि [दे] छट, ओप दिया हुमा (पह्) ।  
 ओप्प सक [अर्पय्] अर्पण करना । ओप्पेइ  
 (हे १, ६३) ।  
 ओप्पा स्त्री [दे] शाण आदि पर मणि वगैरह  
 का घर्षण करना (दे १, १४८) ।  
 ओप्पाइय वि [औत्पातिक] उत्पात-सम्बन्धी  
 (श्रौप) ।  
 ओप्पिअ वि [अर्पित] समर्पित (हे १, ६३) ।  
 ओप्पिअ वि [दे] शाण पर घिसा हुमा,  
 'णिवमउओप्पिअपययह' (दे १, १४८) ।  
 ओप्पील पुं [दे] समूह, जत्या (पाअ) ।  
 ओप्पुसिअ } देखो उत्पुसिअ (गउउ, पि  
 ओप्पुसिअ } ४८६) ।  
 ओवद्ध वि [अवद्ध] १ वंदा हुमा । २  
 भ्रवनत्र (वव १) ।  
 ओवुञ्ज सक [अव + वुञ्] जानना ।  
 वक्क. ओवुञ्जमाण (आचा) ।  
 ओउमालण देखो उटमालण (दे १, १०३) ।  
 ओभग्ग वि [अवभग्ग] भग्ग, नष्ट (से ३,  
 ६३, १०, २६) ।  
 ओभावणा स्त्री [अपभ्राजना] लोक-निन्दा,  
 अपकीर्ति (राज) ।  
 ओभास अक [अव + भास्] प्रकाशना,  
 चमकना । वक्क ओभासमाण (भग ११,  
 ६) । प्रयो ओभासेइ (भग) ओभासंति, ओभा-  
 संति (सुज १६) क. ओभासमाण (सूत्र  
 १, १४) ।  
 ओभास यक [अव + भाप्] याचना करना,  
 मागना । क्वक ओभासिज्जमाण (निच्च २) ।  
 ओभाम पु [अवभाम] १ प्रकाश (श्रौप) ।  
 २ महागह-विशेष (ठा २, ३) ।

ओभासण न [अवभासन] १ प्रकाशन,  
 उद्योतन (भग ८, ८) । २ आविर्भाव । ३  
 प्राप्ति (सूत्र १, १२) ।  
 ओभासण न [अवभाषण] याचना, प्रार्थना  
 (वव ८) ।  
 ओभासिय वि [अवभाषित] १ याचित,  
 प्रार्थित (वव ६) । २ न. याचना, प्रार्थना  
 (वह १) ।  
 ओमुग्ग वि [अवमुग्ग] वक्क, वांकाः (एगाया  
 १, ८—पत्र १३३) ।  
 ओभेडिय वि [अवमुक्त] छुड़ाया हुमा,  
 रहित किया हुमा, 'तेणवि कडिइअणलक्ख  
 पिव सूई-ओभेडिओ नियकुत्तुओ' (महा) ।  
 ओम वि [अवम] असार, निस्सार (आचा  
 २, ५, २, १) ।  
 ओम वि [अवम] १ कम, न्यून, हीन  
 (आचा) । २ लघु छोटा (ओव २२३ भा) ।  
 ३ न. दुम्भ, अकाल (ओव १३ भा) ।  
 'कोट्ट वि [कोट्ट] ऊनोदर, जिसने कम  
 स्त्राया हो वह (ठा ४) । 'चेलग, 'चेलय  
 वि [चेलक] जीर्ण ओर मलिन वक्क धारण  
 करनेवाला (उत्त १२, आचा) । 'रत्त पु  
 [रात्र] १ दिन-क्षय, ज्योतिष की गिनती  
 के अनुसार जिस तिथि का क्षय होता है वह  
 (ठा ६) । २ अहोरात्र, रात-दिन (ओव  
 २८५) ।  
 ओमइल वि [अवमलित] मलिन, मैला (से  
 २, २५) ।  
 ओमंथ [दे] देखो ओमत्थ (पाअ) ।  
 ओमथिय वि [दे] अविमुख किया हुमा,  
 नमाया हुमा (एगाया १, १) ।  
 ओमथिय वि [अवमस्तिक] शीर्षामन से  
 स्थित, नीचे मन्तक ओर ऊँचे पैर रखकर  
 स्थित (एदि १२८ टी) ।  
 ओमंम वि [दे] अपसृत, अपगत (पह्) ।  
 ओमज्जण न [अवमज्जन] स्नान-क्रिया (उप  
 ६४८ टी) ।  
 ओमज्जायण पु [अवमज्जायन] ऋषि-  
 विशेष (जं ७, इक्) ।  
 ओमज्जिअ वि [अवमज्जित] जिसको स्नान  
 कराया गया हो वह, स्थित (स ५६७) ।  
 ओमट्ट वि [अवमट्ट] मृट्ट, धुमा हुमा (से  
 ५, २१) ।

ओमय वि [दे] नत, अचोमुत्र (पाय) ।  
 ओमयिय [दे] देवो ओमयिय (श्रौच  
 ३=६) ।  
 ओमह न [निर्मात्र] निर्माय, देवाच्छिद्र  
 द्रव्य (पङ्) ।  
 ओमह वि [दे] धनीनूत, कठिन, जमा हुआ  
 (पङ्) ।  
 ओमाण पु [अपमान] अपमान, विस्कार  
 (उत्त २६) ।  
 ओमाण न [अवमान] ? जिससे क्षेत्र वगैरह  
 का माप किया जाता है वह, हन्त, दण्ड  
 वगैरह मान (उ २, ४) । २ जिसका माप  
 किया जाता है वह क्षेत्रादि (अणु) ।  
 ओमाणण न [अवमानन, अप] अपमान,  
 विस्कार (स ६६७) ।  
 ओमाय वि [अवमित] परिमित, मापा हुआ  
 (मुज्ज ६) ।  
 ओमाल देवो ओमह = निर्मात्र्य (हे १ ३८,  
 कुमाः वज्जा ८८) ।  
 ओमाल अक [उप + माल] ? शोभना,  
 शोभित होना । २ सक्र. सेवा करना, पूजना ।  
 संकृ. ओमालि वि (भवि) । वक्क 'अह्वावि  
 भन्निरागमत्तियसव्वरूधीमत्तुमुमदामेहि । ओमा-  
 लिज्जनधमो, नियमा तित्थाहिवो होइ'  
 (उन १८६ टी) ।  
 ओमालिअ देवो ओमह = निर्मात्र्य (प्राकृ  
 ३४) ।  
 ओमालिअ वि [उपमालि] ? शोभित ।  
 २ पूजित, अर्चित (भवि) ।  
 ओमालिआ श्री [अवमालि] चिमही या  
 मुरझाई हुई माना (गा १६४) ।  
 ओमाम पु [अवमर्ग] मर्ग (ने ६, ६७) ।  
 ओमिण सक [अव + मा] मापना, मान  
 करना । कर्म ओमिणिज्जइ (अणु) ।  
 ओमिणण न [दे] प्राँखनक, विवाह की एक  
 रीति, वर के लिये नामू की ओर से किया  
 हुआ न्योटावर (पचा ८, २५) ।  
 ओमिय वि [अवमित] परिच्छिन्न, परिमित  
 (मुज्ज ६) ।  
 ओमील अक [अव + मील] मुद्रित होना,  
 बन्द होना । वक्क.ओमीलत (वे ३, १) ।

ओमीस वि [अप्रमित्र] १ मिश्रित । २  
 समीपन्य । ३ न समीप्य, समीपताः  
 'मुच्चिरि अन्धमाणो,  
 वेरुलिओ कायमारियप्रोमीने ।  
 न उवइ कायभाव,  
 पाहणगुणेण नियणण ।'  
 (श्रौच ७७२) ।  
 ओमुक वि [अवमुक्त] परित्यक्त (सम्मत्त  
 १५६) ।  
 ओमुग देवो उम्मुग (पि १०८, २३४) ।  
 ओमुच्छिअ वि [अवमुच्छित] महा-मूर्च्छा  
 की प्राण (पउम ७, १५८) ।  
 ओमुद्धग वि [अप्रमूर्धक] अचोमुत्र, 'ओमु-  
 द्दगा वरणिक्के पईति' (सूत्र १, ५) ।  
 ओमुय नक [अव + मुच्] पहनना ।  
 श्रापुयड (कप्प) । वक्क ओमुयत (कप्प) ।  
 संकृ. ओमुइत्ता (कप्प) ।  
 ओमोय पु [ओमोक] आनरण, आनूपण  
 (नग ११, ११) ।  
 ओमोय वि [अवमोदर] भूख की अपेक्षा  
 न्यून भोजन नरनेवाला (उत्त ३०) ।  
 ओमोययि न [अवमोदरिक] ? न्यून  
 भोजनक, तम-विशेष (आचा) । २ दुम्भित,  
 अवान (श्रां ७) ।  
 ओमोययिया श्री [अवमोदरिता, रिक्ता]  
 न्यून भोजन रूप तप (ठा ६) ।  
 ओम्माय पु [उन्मात्र] उन्मत्तता (सन्धोव २१) ।  
 ओय न [ओजम्] ? विपन्न सख्या, जैसे  
 एक, तीन, पाच आदि (पिड ६२६) । २  
 आहार-विशेष, अपनी उत्पत्ति के समय जीव  
 प्रथम जो आहार लेता है वह (सूत्रनि १७१) ।  
 ओय वि [ओजम्] गृह, घर (वव ५) ।  
 ओय वि [ओज] ? एक, अनहाय (सूत्र १,  
 ४, २, १) । २ मय्यन्व, तट्यन्व, उदासीन  
 (वह १) । ३ वृ विपन्न राशि (नग २५, ३) ।  
 ओय न [ओजस्] ? बल (आचा) । २  
 प्रकाश, तेज (चद ५) । ३ उत्पत्ति-स्थान  
 में आहत पुद्गलों का समूह (परण ८, सग  
 १८०) । ४ आर्तव, ऋतु-वर्ष (ठा ३, ३) ।  
 ओयसि वि [ओजन्विन] ? कनवान् ।  
 २ तेजन्वी (सम १५२, श्रौप) ।

ओयदृण न [अपवर्त्तन] पीछे हटना, वापिस  
 पीटना (उप ७६०) ।  
 ओयइह नक [अप + दृप्] अज्ञान ।  
 वक्क ओयइहयंत (पउम ७१, २६) ।  
 ओयइहया } श्री [दे] ओदनी, ओदने  
 ओयइही } का उम चादर, दुपट्टा (सुव  
 २, ३०) ।  
 ओयग देवा ओदग (पउम ६६, १६) ।  
 ओयत्त वि [अपवृत्त] अवनत, अचोमुत्र  
 (पाय) ।  
 ओयत्त नक [अप + वर्तय्] उतारना,  
 धारी करने के लिए नमाना । संकृ.  
 ओयत्तियाण (आचा २, १, ७, ५) ।  
 ओयत्तग न [अपवर्त्तन] विमत्ताना, हटाना  
 (पिड ५६३) ।  
 ओयवित्र वि [दे] परिकर्मित (परह १, ४,  
 श्रौप) ।  
 ओया श्री [ओजम्] शक्ति, सामर्थ्य (णया  
 १, १०—पत्र १७०) ।  
 ओया श्री [ओजम्] ? प्रकाश (मुज्ज ६) ।  
 २ नाता का शुरू-शोरित (तदु १०) ।  
 ओयाइअ देवो उवयाइय (नुपा ६२५, दे  
 ८, २०) ।  
 ओयाय वि [उपयात] उपागत, समीप पहुँचा  
 हुआ (णया १, ६; निर १, १) ।  
 ओयार सक [अव + तारय्] नीचे उता-  
 रना । नक ओयारिया (दस ५, १, ६३) ।  
 ओयार पु [अवतार] घाट, तीर्थ (विश्य  
 ५१८) ।  
 ओयारग वि [अवतारक] ? उतारनेवाला ।  
 २ प्रवृत्ति करनेवाला (सम १०६) ।  
 ओयारण देवो उव्यारण (कुप्र ५१) ।  
 ओयावइत्ता अ [ओजयित्वा] ? वन दिखा  
 कर । २ चमत्कार दिखा कर । ३ विद्या आदि  
 का सामर्थ्य दिखा कर (जो बीसा दी जाय  
 वह) (ठा ४) ।  
 ओर वि [दे] ? चार, सुन्दर (दि १, १४६) ।  
 २ समीप (दश० अग० नू०, आख्या० षोड-  
 पत्र ८७ गा० ६) ।  
 ओरपिअ वि [दे] ? आक्रान्त । २ नट (दि  
 १, १७१) ।  
 ओरपिअ वि [दे] पतना किया हुआ, टिखा  
 हुआ (पाप्र) ।

ओरत्त वि [दे] १ गविष्ठ, अग्निमानी । २ कुसुम्भ से रक्त । ३ विदारित, काटा हुआ (दे १, १६५, पात्र) ।

ओरद्ध देखो अवरद्ध = अपराद्ध (प्राह ५०) ।

ओरम अक [उप+रम्] निवृत्त होना ।

ओरम (सूत्र १, २, १, १०) ।

ओरली स्त्री [दे] लम्बा और मधुर आवाज (दे १, १८४, पात्र) ।

ओरस सक [अव+त्] नीचे उतरना ।

ओरसइ (हे ४, ८५) ।

ओरस वि [उपरस] स्नेह-युक्त, अनुरागी (ठा १०) ।

ओरस वि [औरस] १ म्बोत्पादित पुत्र, स्व-पुत्र (ठा १०) । २ औरस्य, हृदयोत्पन्न (जीव ३) ।

ओरसिअ वि [अवतीर्ण] उतरा हुआ (कुमा) ।

ओरस्त वि [औरस्य] हृदयोत्पन्न, आन्तरिक (प्राह) ।

ओराल देखो उराल = उदार (ठा ४, १० जीव १) ।

ओराल देखो उराल (दे) (चद १) ।

ओराल न [औदार] नीचे देखो (विसे ६३१) ।

ओरालिय न [औदारिक] १ शरीर विशेष, मनुष्य और पशुओं का शरीर (श्रीप) । २ वि. शोभायमान, शोभा वाला (पात्र) । ३ औदारिक शरीर वाला (विसे ३७५) । ४ नाम न [नामन्] औदारिक शरीर का हेतुभूत कर्म (कम्म) ।

ओरालिय वि [दे] १ व्याप्त । २ उपलिप्त, 'दिट्ठोसहिरोरालियसिरो' (सुख १, १२) ।

ओरालिय वि [दे] १ पोछा हुआ; 'मुहि करयंनु देवि पुणु ओरालियमुहकमलु' (भवि) । २ फैलाया हुआ, प्रसारित; 'दसदिसि वहकयनु ओरालिमो' (भवि) ।

ओराली देखो ओरली (सुर ११, ८६) ।

ओरिन्मिय न [अवरिद्धित] महिप की आवाज, 'कत्यइ महिसोरिकिय कत्यइ उइउइइहवन्इ-सलिल' (पत्रम ६४, ४३) ।

ओरिल्ल पुं [दे] लम्बा काल, दीर्घ काल (दे १, १५५) ।

ओरी [दे] समीप (आख्या० कोप. पत्र—८५ गा० १५) ।

ओरंज न [दे] क्रीडा-विशेष (दे १, १५६) ।

ओरुभिय वि [उपरुद्ध] आवृत्त, आच्छादित (गा ६१४)

ओरुण वि [अवरुद्धित] रोया हुआ (गा ५३८) ।

ओरुद्ध वि [अवरुद्ध] रक्ता हुआ, वन्द किया हुआ (गा ८००) ।

ओरुभ सक [अव+रुह] उतरना । वक्त्र ओरुभमाण (कत्त) ।

ओरुम्मा अक [उद्+वा] सूखना, सूख जाना । ओरुम्माइ (हे ४, ११) ।

ओरुह देखो ओरुभ । वक्त्र ओरुहमाण (संया ६३, कत्त) ।

ओरुहण न [अवरोहण] नीचे उतरना (पत्रम २६, ५५, विसे १२०८) ।

ओरुहण न [अवरोहण] नीचे उतारना, अवतारण (पत्र १५५) ।

ओरोध देखो ओरोह = अवरोध (विपा १, ६) ।

ओरोह देखो ओरुभ । वक्त्र ओरोहमाण (कत्त, ठा ५) ।

ओरोह पुं [अवरोध] १ अन्त पुर, जनानखाना (श्रीप) । २ अन्त पुर की स्त्री (सुर १, १८३) । ३ नगर के दरवाजा का अवान्तर द्वार (राया १, १, श्रीप) । ४ सघात, समूह (राज) ।

ओलअ पु [दे] १ श्येन पक्षी, बाज पक्षी । २ अपलाप, निहव (दे १, १६०) ।

ओलअणी स्त्री [दे] नवोद्गा, दुलहिन (दे १, १६०) ।

ओलइअ वि [दे अवलगित] १ शरीर में मटा हुआ, परिहित (दे १ १६२, पात्र) । २ लगा हुआ (ने १, १६२) ।

ओलइणी स्त्री [दे] प्रिया, स्त्री (दे १, १६०) ।

ओलइ सक [उत्+लह्व] उल्लघन करना । ओलइति (राया १, १—पत्र ६१) ।

ओलव देखो अवलव = अव+लम् । संक ओलविरुण (महा) ।

ओलव पु [अवलम्ब] नीचे लटकना (श्रीप; स्वप्न ७३) ।

ओलंवन न [अवलम्बन] सहारा, आश्रय । 'दीव पु [दीप] शृङ्खला-वद्ध दीपक (राज) ।

ओलंविच वि [अवलम्बित] आश्रित, जिसका सहारा लिया गया हो वह (निचू १) । २ लटकाया हुआ (श्रीप) ।

ओलविच वि [उल्लवित] लटकाया हुआ (सूत्र २, २ श्रीप) ।

ओलभ पु [उपालम्भ] उलाहना, 'अप्पोलभ-णमित्त पढमस्स णायज्जम्यणस्स अयमट्ठे परणत्ते त्ति वेमि' (राया १, १) ।

ओलक्खिअ वि [उपलक्षित] पहिचाना हुआ (पत्रम १३, ४२, सुपा २५४) ।

ओलगि (अप) देखो ओलगि (सिरि ५२८) ।

ओलग सक [अव+लग्] १ पीछे लगना । २ मेवा करना । ओलगगति (पि ४८८) । हेक्क ओलगिउ (सुपा २३४, महा) । प्रयो, सक ओलग्गाविवि (सण) ।

ओलग वि [अवरुण] १ ग्लान, वीमार । २ दुर्वल, निर्वल (राया १, १—पत्र २८ टी. विपा १, २) ।

ओलग वि [अवलग्न] पीछे लगा हुआ, अनुलग्न (महा) ।

ओलग [दे] देखो ओलग (दे १, १६४) ।

ओलग्गा स्त्री [दे] सेवा, भक्ति, चाकरी; 'करेउ देवो पसाय मम ओलग्गाए' (स ६ ३६), 'ओलग्गाए वेलत्ति जपित्ति निग्गमो खुजो' (धम्म ८ टी) ।

ओलग्गि वि [अवलगिन्] सेवा करने-वाला । स्त्री-णी (रंभा) ।

ओलग्गिअ वि [अवलग्न] मेवित (वज्ज ३२) ।

ओलावअ पु [दे] श्येन, बाज पक्षी (दे १, १६०, स २१३) ।

ओलि देखो ओली = गाली (हे १, ८३) ।

ओलिअ पु [अलिन्दक] बाहर के दरवाजे का प्रकोष्ठ (गा २५४) ।

ओलिप सक [दे] खोलना । कवक्क 'ओलिप- [लिप्प] माणे वि तहा तहेव काया क्वाडम्मविभासियव्वा' (पिड ३५४) ।

ओलिप सक [अव+लिप्] लीपना, लेप लगाना । वक्त्र ओलिपमाण (राज) ।

ओलिभा स्त्री [दे] उपदेहिका, दीमक (दे १, १५३, गठ्ठ) ।

ओलिङ्गमाण देखो ओलिह् ।

ओलिचि त्रि [अचलिप्त, उपलिप्त] लीपा हुआ, कृतनेप (परह १, ३, उक; पाम; दे १, १५८, श्रौप) ।

ओलिची स्त्री [दे] खड्ग आदि का एक दोप (दे १, १५९) ।

ओलिप्प न [दे] हास, हँसी (दे १, १५३) ।

ओलिपर्पती स्त्री [दे] खड्ग आदि का एक दोप (दे १, १५९) ।

ओलिह सक [अव + लिह्] आस्वादन करना । कवक ओलिङ्गमाण (कव) ।

ओली सक [अप + ली] १ आगमन करना । २ नीचे आना । ३ पीछे आना, 'नीच व वाया आर्लित' (विसे २०६४) ।

ओली स्त्री [आली] पत्ति, श्रेणी (कुमा) ।

ओली स्त्री [दे] कुल-परिपाटी, कुलाचार (दे १, १४८) ।

ओलुकी स्त्री [दे] बालको की एक प्रकार की क्रीडा (दे १, १५३) ।

ओलुड सक [वि + रेचय्] भरना, टपकना, बाहर निकालना । ओलुड (हे ४, २६) ।

ओलुडिर वि [विरेचयित्] भरनेवाला (कुमा) ।

ओलुप पु [अप्रलोप] मसलना, मर्दन करना (गठ्ठ) ।

ओलुपअ पु [दे] तापिका-हस्त, तवा का हाथा (दे १, १६३) ।

ओलुग वि [अवरुण] १ रोगी, बीमार (पाम) । २ भग्न, नष्ट (परह १, १), 'मुक्ता मुक्ता निम्नना ओलुगगा ओलुगगा-सरोरा' (निर १, १) ।

ओलुग वि [दे] १ सेवक, नौकर । २ निम्नेज, निर्वल, बल-हीन (दे १, १६८) । ३ निश्छाय, निस्तेज (सुर २, १०२, दे १, १६४, स ४६६, ५०४) ।

ओलुगवि वि [दे] १ बीमार । २ विरह, पीड़ित (वज्रना ८६) ।

ओलुट्ट वि [दे] १ असंघटमान, भ्रनगत । २ मिया, भसत्य (दे १, १६४) ।

ओलेहड वि [दे] १ अन्यामक । २ तुष्णा-पर । ३ प्रवृद्ध (दे १, १७२) ।

ओलोअ देखो अवलोअ । वक ओलोअत, ओलोएमाण (मा ५, एया १, १६, १, १) । ओलोट्ट सक [अप + लुट्] पीछे लौटना । वक ओलोट्टमाण (राज) ।

ओल्लेइ वि [दे] १ देखना । २ दृष्टि नजर (उप पृ १०७) । ओल्लेइ न [अवलोक्न] गवाल, 'दिह्वा अन्नया तेरा ओलोवणणएण' (सुख २, ६) । ओल्लेइगा स्त्री [अवलोक्ना] १ देखना । २ गवेपणा, खोज (वव ४) । ओल्ले पु [दे] १ पति, स्वामी । २ दण्ड-प्रतिनिधि पुरुष, राजपुरुष-विशेष (पिग) । ओल्ले देखो उल्ल = आद्रं (हे, १, ८२, काप्र १७२) । ओल्ले देखो उल्ल = आद्रंयु । ओल्लेइ (पि १११) । वक ओल्लेन (से १३, ६६) । वक ओल्लेज्जत (गा ६२१) । ओल्लेण पु [अवलट्टन] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २८) । ओल्लेण न [आद्रंयण] गीला करना, मिजाना (पि १११) । ओल्लेणी स्त्री [दे] माजिता, इलायची, दाल-चीनी आदि मसाला से सज्जत दधि (दे १, १५४) । ओल्लेण न [दे] स्वाप, सोना (दे १, १६३) । ओल्लेखि वि [दे] सुप्त, सोया हुआ (दे १६३, मुपा ३१०) । ओल्लेचिद् (शौ) नीचे देखा (पि १११, मृच्छ १०५) । ओल्लेअ वि [आद्रित] आद्रं किया हुआ (गा ३३०, सण) । ओली स्त्री [दे] पनक, काई, गुजराती में 'ऊल' (वेइय ३७३) । ओल्लेव सक [वि + ध्यापय्] बुझाना । ठंडा करना । कवक ओल्लेचिज्जत (स ३६२) । क ओल्लेवेयव (स ३६२) । ओल्लेचिअ वि [दे] देखो उल्लेचिय (सुर १८, १४६) । ओव न [दे] हाथी वगैरह को बांधने के लिए किया हुआ गतं (दे १, १४६) ।

ओवअण न [अवपतन] नीचे गिरना, अघ पात (से ६, ७७, १३, २२) । ओवडणी स्त्री [अवपातिनी] विद्या-विशेष, जिमके प्रभाव में स्वयं नीचे आता है या दूसरे को नीचे उतारता है (सूम २, २) । ओवइय वि [अवपतित] १ अघतीर्ण, नीचे आया हुआ (से ६, २८, श्रौप) । २ आ पडा हुआ, आ डटा हुआ (मे ६, २६) । ३ न पतन (श्रौप) । ओवइय पुत्री [दे] तीन इन्द्रियवाला एक सुदृ जन्तु; 'मि कि त तेइदिया ? तेइदिया अणे-गविहा परएत्ता, तं जहा;—ओवइया रोहि-णीया हत्यिमोडा' (जीव १) । ओवइय वि [औपचयिक] उचित, परिपुष्ट (राज) । ओवगारिय वि [औपकारिक] उपकार करने वाला (भग १३, ६) । ओवगारिय वि [औपकारिक] उपकार के निमित्त का, उपकारार्थक (देवेन्द्र ३०६) । ओवग्ग सक [अप + क्रम्] १ व्याप्त करना । २ ढकना, आच्छादन करना । ओवग्गइ, ओवग्गउ (मे ४, २५, ३, ११) । ओवग्ग सक [उप + वल्ग, आ + क्रम्] १ आक्रमण करना । २ परानाव करना । ओवग्गइ (भवि) । संक ओवग्गवि (भवि) । ओवग्गइय वि [औपग्रहिक] जैन साधुओं के एक प्रकार का उपकरण, जो कारण-विशेष में थोड़े समय के लिए लिया जाता है (पव ६०) । ओवग्गिअ वि [दे उपवल्गित] १ अभिमूत १ आक्रान्त (मे ६, ३०, पाप्र, सूर १३, ४२) । ओववाइय वि [औपघातिक] उपघात करने वाला, पीडा उत्पन्न करनेवाला, 'सुय वा जइ वा दिट्ठ न लविज्जोवघाइय' (दस ८) । ओवच सक [उप + व्रज्] पास जाना, 'मुहाए ओवच वासहर' (भवि) । ओवट्ट अक [अप + वृत्] १ पीछे हटना । २ कम होना, हास-प्राप्त होना । वक ओवट्टत (उप ७६२) । ओवट्ट पु [अपवत्ते] १ हास, हानि । २ मागाकार, (विसे २०६२) ।

ओवट्टण न [अपवर्त्तन] हात, कमी (श्रावक २१६)।

ओवट्टणा स्त्री [अपवर्त्तना] भागाकार, भाग-हरण (राज)।

ओवट्टिअ न [दे] चाटु, खुशामद (दे १, १६२)।

ओवट्ट वि [अववृष्ट] वरसा हुआ, जितने वृष्टि की हो वह (से ६, ३४)।

ओवट्ट पुं [दे अववर्ष] १ वृष्टि, वारिण्य (से ६, २५)।

२ मेघ-जल का सिञ्चन (दे १, १५२)।

ओवट्टिअ वि [औपस्थितिक] उपस्थिति के योग्य, नौकर (प्रवौ ११)।

ओवड अक [अव + पत्] गिरना, नीचे पडना। वहु ओवडत (से १३, २८)।

ओवडण न [अवपतन] १ अच पात। २ क्रम-पात (से २, ३२)।

ओवडड वि [उपाय] भावे के करीब। १ सोयरिया स्त्री [वमोदरिका] वारह क्वल का ही आहार करना, तप-विशेष (भग-७, १)।

ओवडि वि [अपवृद्धि] हास (निचू २०)।

ओवड्डा स्त्री [दे] ओदनी का एक भाग (दे १, १५१)।

ओवण न [उपवन] बगीचा, प्राराम (कुमा)।

ओवणिहिचपु [औपनिहित, औपनिधिक] भिक्षाचर विशेष, समीपस्थ भिक्षा को लेनेवाला साधु (ठा ५, श्रौप)।

ओवणिहिया स्त्री [औपनिधिकी] भानुपूर्वा-विशेष, अनुक्रम-विशेष (श्रौप)।

ओवत्त सक [अप + वर्त्तय्] १ उलटा करना। २ फिराना, घुमाना। ३ फेंकना।

नहु ओवत्तिय (दस ५)। क, ओवत्तेअच्च (से १०, ५०)।

ओवत्त वि [अपवृत्त] फिराया हुआ (से ६, ६१)।

ओवत्तिय वि [अपवर्त्तित] १ घुमाया हुआ। २ क्षिप्त (शाया १, १—पत्र ४७)।

ओवत्थाणिय वि [औपस्थानिक] सभा का कार्य करनेवाला नौकर। स्त्री १ या (भग ११, ११)।

ओवम देखो ओवम्म, 'इदियपच्चक्ख पिय अणुमाण ओवमं च महनाए' (जीवस १४२)।

ओवमिय वि [औपमिक] उपमा-सम्बन्धी (अणु)।

ओवमिय } न [औपम्य] १ उपमा (ठा ८, ओवम्म } अणु)। २ उपमान, प्रमाण (सूम १, १०)।

ओवय सक [अव + पत्] १ नीचे उतरना। २ आ पडना। वहु ओवयत, ओवयमाण कप्प, म ३७०, पि ३६३, शाया १, १६)।

ओवयण न [दे अवपदन] प्रोह्लणक, चुमना (शाया १, १—पत्र ३६)।

ओवयण न [अवपतन] अवतरण, नीचे उतरना (भग ३, २—पत्र १७७)।

ओवयाडयय वि [औपयाचितक] मनौती ने प्राप्त किया हुआ, मनौती से मिला हुआ (ठा १०)।

ओवयारिय वि [औपचारिक] उपचार-सम्बन्धी (पचा ६, पुफ ४८६)।

ओवर पु [दे] निकर, समूह (दे १, १५७)।

ओववाडय वि [औपपातिक] १ जिसकी उत्पत्ति होती हो वह (पच १)। १ पु ससारी, प्राणी (भावा)। ३ देव या नारक-जीव (दस ४)। ४ न देव या नारक जीव का शरीर (पच १)। ५ जैन आगम-ग्रन्थ विशेष, औप-पातिक सूत्र (श्रौप)।

ओववाडय वि [औपपातिक] एक जन्म से दूसरे जन्म में जानेवाला (सूम १, १, ११)।

ओवसग्गिय वि [औपसंगिक] १ उपसंग से सम्बन्ध रखनेवाला, उपद्रव—समर्थ रोगादि। २ शब्द-विशेष, प्र, परा आदि अव्यय ह्य शब्द (अणु)।

ओवसमिअ पुन [औपशमिक] १ उपशम। २ वि. उपशम से उत्पन्न। ३ उपशम होने पर होनेवाला (विसे २१७४)।

ओवसेर न [दे] १ चन्दन, सुगन्धि काष्ठ-विशेष। २ वि. रति-योग्य (दे १, १७३)।

ओवस्सय देखो उवस्सय, 'घट्टिअ ओवस्सय तणय तेणाहरक्खट्ठा' (पव ८१)।

ओवड सक [अव + वह] १ वह जाना, वह चलना। २ हूवना। कवहु, ओवुच्चभमाण (कस)।

ओवहारिअ वि [औपहारिक] उपहार-सम्बन्धी (विक ७५)।

ओवहिय वि [औपधिक] माया से गुप्त विचरनेवाला (शाया १, २)।

ओवाअअ पु [दे] आपातप, जल-समूह की गरमी (पड)।

ओवाडय देखो ओववाडय (राज)।

ओवाडय देखो उवयाडय (सुपा ११३)।

ओवाडय वि [आवपातिक] सेवा करनेवाला (ठा १०)।

ओवाडण न [अवपाटन] विदारण, नाश (ठा २, ४)।

ओवाडिय वि [अवपाटित] विदारित (श्रौप)।

ओवाय सक [उप + याच्] मनौती करना। वहु. ओवायत, ओवाडयमाण (सुर १३, २०६, शाया १, ८—पत्र १३४)।

ओवाय पु [अवपात] १ मेवा, भक्ति (ठा ३, २, श्रौप)। २ गत्तं, गड्डा (पएह १, १)। ३ नीचे गिरना (पएह १, ४)।

ओवाय वि [औपाय] उपाय-जन्य, उपाय-सम्बन्धी (उत्त १, २८)।

ओवार सक [अप + वारय्] आच्छादन करना, ढकना। संहु ओवारिअ (धमि २१३)।

ओवारिअ न [दे] धान्य भरने का एक प्रकार का लम्बा कोठा, गोदाम (राज)।

ओवारिअ वि [दे] ढेर किया हुआ, राशि-कृत (स ४८७, ४८)।

ओवारिअ वि [अववारित] आच्छादित, ढका हुआ (मै ६१)।

ओवास अक [अव + काश्] शोमना-विराजना। ओवासइ (प्राप)।

ओवास अक [अव + काश्] अवकाश पाना, जगह मिलना। ओवासइ (प्राप्र, कुमा ७, २३, प्राक ६६)।

ओवास पु [अवकाश] अवकाश, खाली जगह (प्राप्र, प्राप्र, से १, ५४)।

ओवास पु [उपवास] उपवास, भोजनाभाव (पवम ४२, ८६)।

ओवासतर पुंन [अवकाशान्तर] आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र ७७६)।

ओवाह नक [अप + गाह्] श्रवगाहना ।  
ओवाहह (प्राप्र) ।

ओवाहिअ वि [अपवाहित] १ नीचे गिराया  
हुआ (से ६, १६, १३, ७२) । २ घुमाकर  
नीचे डाना हुआ (से ७, ५५) ।

ओविअ वि [दे] १ आरोपित, व्यवसाित ।  
२ मुक्त, परित्यक्त । ३ हृत, छोना हुआ ।  
४ न खुशामद । ५ रदित, रोवन (दे १,  
१६७) । ६ वि परिकर्मिन, संस्कारित  
(रप्) । ७ खचित, व्याप्त (श्रावम) । ८  
उच्चालित, प्रकाशित (राया १, १६) । ९  
विभूषित, शृगारित (प्राप्र) । देखा उचिय ।

ओविद्व वि [अपविद्व] १ प्रेरित, आहत  
(ने ७ १०) । २ नीचे गिराया हुआ (से १३,  
२६) ।

ओवील नक [अव + पीडय्] पीडा पहुँ-  
चाना, मार-पीट करना । वहु ओवीलोमाण  
(राया १, १८—पत्र २३६) ।

ओवीलय देवो उव्वीलय (पह १, ३) ।

ओवुन्भमाण देखो ओवह ।

ओवेहा वी [उपेआ] १ उपदर्शन, देवना ।  
२ श्रवणोत्तरण सजयगिहिचोयणचोयणे य  
वावारओवेहा (श्रीष १७१ भा) ।

ओव्वण देवो जोव्वण (से ७, ६२) ।

ओव्वत्त श्रक [अप + वृत्] १ पीछे  
फिरना, लोटना । २ श्रवन्त होना । सहु  
ओव्वत्तिऊण (श्रीष भा ३० टी) ।

ओव्वन वि [अपवृत्त] पीछे फिरा हुआ ।  
२ नमा हुआ, श्रवन्त (से ८, ८४) ।

ओव्वेव्व देखो उव्वेव्व (सदि ३५) ।

ओस देवो ऊस ँ ण्य (वस ५, १, ३३) ।

ओम पु [दे] देखो ओसा (राज) । ० चारण  
पु [चारण] हिम के श्रवलम्बन से जाने-  
वाला साधु (गच्छे) ।

ओसह सक [अव + प्ठक्] कम करना,  
घटाना । सहु, ओसकिया (वस ५, १, ६३) ।

ओसह श्रक [अव + प्ठक्] १ पीछे  
हटना, श्रपसरण करना । २ नागना, पलायन  
करना । ३ उदीरण करना, उत्तेजित करना ।  
ओसहइ (पि ३०२, ३१५) । वहु ओसहत्त,  
ओसहमाण (से ५, ७३, स ६८) । सहु.

ओमहइत्ता, ओसकिय, ओसकिऊण  
(ठा ८, वस ४, नुर २, १५) ।

ओसह वि [दे अवपठिन] श्रपसृत्त, पीछे  
हटा हुआ (दे १, १८६, पाप्र) ।

ओसहण न [अवपठण] १ श्रवसरण (न  
६३) । २ नियत काल से पहले करना (वमं  
३) । ३ उत्तेजन (वह २) ।

ओसकिय वि [अवपठिन] नियत काल  
से पहले किया हुआ (पि २६०) ।

ओमट्ट श्रम [वि + सृप्] पैनना, पनरना ।  
ओमट्टइ (गा ८५६) ।

ओसट्ट वि [दे] विक्रमित, प्रकुलित (पट्ट)

ओसडिअ वि [दे] श्राकीणं, व्याप्त (पट्ट) ।

ओसह न [ओपय] दवा, दनाज, भैपज  
(हे १, २२७) ।

ओमडिअ वि [ओपयिक] वय, - चिकित्सक  
(कुमा) ।

ओसण न [दे] उद्देग, वेद (दे १ १५५) ।

ओसण्ण वि [अवसन्न] १ पित्त (गा ३८२,  
ने १३, ३०) । २ जियिल, डीला (वव ३) ।  
देखो ओमन्न ।

ओसण्ण वि [दे] बुद्धि, तरिण्ड (दे १,  
१५६, पट्ट) ।

ओसण्ण श्र [दे] प्राय बहून कर (कप्) ।

ओसत्त वि [अवसक्त] नंबद, सयुक्त (राया  
१, ३, स ८४६) ।

ओसधि देखो ओसहि (ठा २, ३) ।

ओसट्ट वि [दे] पातित, गिराया हुआ (पाप्र) ।

ओसन्न देवो ओमण्ण = श्रवमन्न (नुर ८,  
३४; राया १, ५; स ६, पुफ २१) । ३  
न एकान्तः 'ओसन्ने देव नेएहइ वा' (उज) ।

ओसन्न वि [अवसन्न] निमग्न (दसवू १,  
८) ।

ओसन्न देखो ओसण्ण (कम्म १, १३, विसे  
२२७५) ।

ओसप्पिणी वी [अवसविणी] दश कोटा-  
कोटि मागरोपमपरिमित काल-विशेष, जिसमें  
सर्व पदार्थों के गुणों की क्रमशः हानि होती  
जाती है (सम ७२, ठा १) ।

ओसम सक [उप + शमय्] उपशान्त  
करना । भवि, ओसमेहिनि (विड ३२६) ।

ओसमिअ वि [उपगमित] शान्ति-शान्त  
(मम ३७) ।

ओसर श्रक [अव + त्] १ नीचे आना ।  
२ श्रवतर्णा, जन्म लेना । ओसरइ (पट्ट) ।

ओसर श्रक [अप + सृ] श्रपसरण करना,  
पीछे हटना । २ नरकना, विसर्जना, फिम-  
लना । ओसरइ (महा, पान) । वग. ओसरन  
(गा १८, ३६३, से ६, २६, ६, ८२, १२,  
६, से ६३) ।

ओसर नक [अव + सृ] श्राना, तीर्थंकर  
श्रादि महापुरुष का पधारना (उप ७०८ टी) ।

ओसर पुं [अवसर] १ श्रपसृत्त, समय (सूत्र  
१, २) । २ श्रन्तर (नाक) ।

ओसरण न [अवसरण] १ जिन-देव का  
उपदेश ल्यात (उप १३३, खयण १) । २  
साधुओं का एकदित होना (सूत्र १, १२) ।

ओसरण न [अपसरण] १ हटना, दूर होना ।  
२ वि दूर करनेवाला, 'बहुपावकम्मओसरण'  
(कुमा १) ।

ओसरिअ वि [दे] १ श्राकीणं, व्याप्त । २  
श्राव के दृशाने से संवर्तित या संतित (पट्ट) ।  
३ श्रपोगुण, श्रवन्त । ४ न श्राव का इशारा  
(दे १, १७१) ।

ओसरिअ वि [असृत्त] श्रागत, पवारा हुआ  
(उप ७०८ टी) ।

ओसरिअ वि [अपसृत्त] १ पीछे हटा हुआ  
(पउम १६, २३ पाप्र, गा ३५१) । २ न.  
श्रपसरण (से २, ८) ।

ओसरिअ वि [उपसृत्त] समुत्थात, सामने  
आया हुआ, (पाप्र) ।

ओसरिआ वी [दे] श्रानिन्दन, बाहर के दर-  
वाजे का प्रकोष्ठ (दे १, १६१) ।

ओसव पु [उरमव] उरव, श्रानन्द-शरण  
(प्राप्र) ।

ओमविय देवो ओममिअ (पिड ३२६) ।

ओमविय वि [उच्छ्रयित] ऊँचा किया हुआ  
(पउम ८, २६६) ।

ओसविअ वि [दे] १ जीभा-रहित । २ न  
श्रवमाद, खेद (दे १, १६८) ।

ओमह न [ओरथ] दवाई, भैपज (श्रीष,  
स्वप्न ५६) ।

ओसहिं, ही स्त्री [ओपधि] १-वनस्पति (परण १) । २ नगरी-विशेष (राज) । °महि-हर पु [°महिहर] पर्वत-विशेष (अच्छ ४४) ।

ओसहिअ वि [आवसथिक] चन्द्रार्ध-दानादि व्रत को करनेवाला (गा ३४६) ।

ओसा स्त्री [दे] १ ओस, निशा जल (जी ५; ग्राचा, विसे २५७६) । २ हिम, वरफ (दे १, १६४) ।

ओसाअ पु [दे] प्रहार की पीडा (दे १, १५२) ।

ओसाअ पु [अवश्याय] हिम, ओस (ने १२, ५२, दे ८, ५३) ।

ओसाअन वि [दे] १ जमाई खाता हुआ ग्राहसी । २ बैठता । ३ वेदना-युक्त (दे १, १७०) ।

ओसाअण वि [दे] १ महीशान, जमीन का मालिक । २ ग्रापोशान (पह) ।

ओसाण न [अवसान] १ अन्त (ठा ४) । २ समीपता, सामीप्य (सूत्र १, ४) ।

ओसाण न [अवसान] गुरु के समीप स्थान, गुरु के पान निवास (सूत्र १, १८, ४) ।

ओसाणिहाण वि [दे] विवि-पूर्वक अनुष्ठित (दे १, १६३) ।

ओसाय पुं [अवश्याय] ओस, निशा-जल (जीवस ३१) ।

ओसायण न [अवसादन] परिश्रान्त, नाश (विसे) ।

ओसार सक [अप + सारय्] दूर करना । ओसारेहि (स ४०८) । कर्म ओसारिज्जंतु (स ४१०) । सक ओसारि वि (भवि) ।

ओसार पु [दे] गो-वाट, गो-वाढा (दे १, १४६) ।

ओमार पु [अपमार] अपमरण (से १३, १४) ।

ओसार देखो ऊसार = उत्सार (भवि) ।

ओसार पु [अवसार] कवच, वस्त्र (ने १२, ५६) ।

ओसारिअ वि [अपसारित] दूर किया हुआ, अपनीत (गा ६६, पउम २३, ८) ।

ओसारिअ वि [अवसारित] श्रवणम्बित, लटकाया हुआ (श्रीप) ।

ओसास (अप) देखो ओवास = अक्काश (भवि) ।

ओसिअ वि [दे] १ श्रवल, बल-रहित (दे १, १५०) । २ अपूर्ण, अमाधारण (पड) ।

ओमिअ वि [उपित] १-वसा हुआ, रहा हुआ (सूत्र १, १४, ४) । २ व्यवस्थित (सूत्र १, ४, १, २०) ।

ओसिअत वक्क [अवसीदन्] पीडा पाता हुआ (हे १, १०१-से ३, ५१) ।

ओसिअ वि [दे] ग्रात, सूँघा हुआ (दे १, १६२, पात्र) ।

ओसिअचिअ वि [अपसेचयित्] अपसेक करनेवाला (सूत्र २, २) ।

ओसिअखिअ न [दे] १ गति-व्याघात । २ अरति-निहित (दे, १, १७२) ।

ओसिअ वि [अवमित्त] भीजाया हुआ, सिक्त (ग्राचा २, १, १, १) ।

ओसिअ वि [दे] उपलिप्त (दे १, १५८) ।

ओसिय वि [अवमित्त] १ पर्यवसित । २ उपशान्त (सूत्र १, १३) । २ जीत, पराभूत (विसे) ।

ओसिरण न [दे] व्युत्पन्न, परित्याग (पड) ।

ओसीअ वि [दे] श्रयो-मुख, अवनत (दे १, १५८) ।

ओसीर देखो उसीर (परह २, ५) ।

ओसीस अक [अप + वृत्] १ पीछे हटना । २ घूमना, फिरना । सक ओसी-सिऊण (दे १, १५२) ।

ओसीस वि [अप + वृत्] अपवृत्त (दे १, १५२) ।

ओसुअ वि [उत्सुक] उत्कण्ठित (प्राप्र) ।

ओसुअ वि [दे] उत्प्रेक्षित, कल्पित (दे १६१) ।

असुभ सक [अव + पातय्] १ गिरा देना । २ नष्ट करना । कर्म ओसुभति (स ७, ६१) । वक्क ओसुभइ (से ४, ५४) । कवक्क ओसुभत (पि ५३५) ।

ओसुअ सक [तिज्] तीक्ष्ण करना, तेज करना । ओसुअइ (हे ८, १०४) ।

ओसुअक वि [अवगुण्क] सूँघा हुआ (पउम ५३, ७६, ५, १४) ।

ओसुअक अक [अव + शुप्] सूँघना । वक्क ओसुअकन (से ६, ६३) ।

ओसुअ वि [दे] १ विनिपतित (दे १, १५७) । २ विनाशित (मे १३, २२) ।

ओसुअमन देखो ओसुअ ।

ओसुअ न [ओत्सुक्य] उत्सुकता, उत्कण्ठा (श्रीप, पि ३२७ ए) ।

ओसुअणी स्त्री [अवस्थापनी] विद्या-ओसुअणिया विशेष, जिसके प्रभाव में दूसरे ओसुअणी को गाढ निद्राधीन किया जा सकता है (सुपा २२०, गाय १, १६, कप्प) ।

ओत्सुक पु [अवगुण्क] अपसर्पण, पीछे हटना (पव २) ।

ओत्सुककण देखो ओत्सुककण (पिड २८५) ।

ओत्सा [दे] देखो ओसा (कम्प) ।

ओत्साड पु [अवशाट] नाश, विनाश (सण) ।

ओह देखो ओव (परह १, ४, गा ५१८, निडू १६, श्रोध २, वम्म १० टी) । ५ सूत्र, शास्त्र-सम्बन्धी वाक्य (विमे ६५७) ।

ओह नक [अव + तृ] नीचे उतरना । ओहइ (हे ४, ८५) ।

ओह पुन [ओघ] १ उत्सर्ग, सामान्य नियम, (एदि ५२) । २ सामान्य, नावारण (वव १) । ३ प्रवाह (राय ४७ टी) । ४ मलिन-प्रवेश । ५ आसन्न-द्वार (ग्राचा २, १६ १०) ।

६ ससार (सूत्र १, ६, ६) । °भुय न [श्रुत] शास्त्र-विशेष (एदि ५२) ।

ओहक पु [दे] हास हँसी (दे १, १५३) ।

ओहजलिअ स्त्री [दे] धुद्र जन्तु-विशेष, चतुरिन्द्रिय जीव-विशेष (जीव १) ।

ओहतर वि [ओवतर] ससार पार करने-वाला (मुनि), ग्राचा) ।

ओहंस पु [दे] १ चन्दन । २ जिसपर चन्दन घिसा जाता है वह शिला, चन्द्रीटा या होरसा (दे १, १६८) ।

ओहट्ट अक [अप + घट्ट्] १ कम होना, हास पाना । २ पीछे हटना । ३ सक हटाना, निवृत्त करना । ओहट्टइ (हे ४, ४१६) । वक्क ओहट्टन (से ८, ६०, सुपा २३३) ।

ओहट्ट पु [दे] १ अवागुण्ण । २ नीवी, कटि वक्र । ३ वि अपसृत, पीछे हटा हुआ (दे १, १६६, भवि) ।



ओहट्ट } वि [अपघट्टक] निवारक, हटाने-  
ओहट्टय } वाला, निषेधक (विपा १, २,  
गाया १, १६, १८) ।

ओहट्टिअ वि [टे] दूसरे को दवाकर हाथ से  
गृहीत (दे १, १५६) ।

ओहट्ट पुं [टे] हाम, हंसी (दे १, १५३) ।

ओहट्ट वि [अवघट्ट] घिमा हुआ (पठम  
३७, ३) ।

ओहट्ट वि [अपहट्ट] नीचे लाया हुआ (दम  
५, १, ६६) ।

ओहट्टणी स्त्री [टे] श्रंगला (दे १, १६०) ।

ओहट्ट वि [टे] श्रवणत (दे १, १५६) ।

ओहट्टियअ वि [अपहस्तित] परित्यक्त, दूर  
किया हुआ (मै ३५) ।

ओहट्ट वि [उपहट्ट] उपघात-प्राप्त (गाया  
१, १) ।

ओहट्ट वि [अवहट्ट] विनाशित (श्रीय) ।

ओहट्ट सक [अप + हट्ट] अपहरण करना ।  
कर्म ओहट्टीयामि (पि ६८) ।

ओहट्ट सक [अव + हट्ट] टेढा होना, बक्र  
होना । २ मक उलटा करना । ३ फिराना ।  
मह ओहट्टिय (आचा २, १, ७) ।

ओहट्ट न [उपगृह] छोटा गृह, कोठरी (परह  
१, १) ।

ओहट्टण न [अपहरण] उठा ले जाना,  
अपहार (उप ६७६) ।

ओहट्टण न [टे] १ विनाशन, हिसा । २  
असम्भव अर्थ की सम्भावना (दे १, १७४) ।

३ अन्न, हथियार (स ५३१, ६३७) । ४  
वि आघात (पड्) ।

ओहट्टिअ वि [टे. अपहट्ट] १ फँका हुआ  
(से १३, ३) । २ नीचे गिराया हुआ (से  
३, ३७) । ३ उतारा हुआ, उतारित (श्रीय  
८०६) । ४ अपनीत; 'ओहट्टिअमव्व मार-  
व्हो' (आ ४०) ।

ओहट्टिअ वि [टे] १ आघात, सूँघा हुआ ।  
२ पु. चन्दन घिसने की शिला, चन्द्रीटा (दे  
१, १६६) ।

ओहट्ट देवो उऊरल (हे १, १७१, कुमा) ।

ओहट्ट सक [अव + गल्ल] घिसना । भवि-  
ओहलिही (सुपा १३६) ।

ओहलिय वि [अगल्लिय] विमा हुआ,  
'असुजलोहलियगठयना' (सुर २, १८६,  
सण) ।

ओहली स्त्री [टे] श्रीय, समूह (सुपा ३६४) ।

ओहस सक [उप + हस्] उपहान करना ।

ओहसठ (नाट) । कवक ओहमिज्जंत (से  
१५, १०) । क ओहमणिज्ज (स ८) ।

ओहसिअ न [टे] १ वन्द्य, कपटा । २ वि  
धूत, कम्पित (दे १, १७३) ।

ओहसिअ वि [उपहमित्त] जिमका उपास  
किया गया हो वह (ग, ६०, दे १ १७३,  
म ४८८) ।

ओहाइअ वि [टे] श्रवो-मुत्र (१, १५८) ।

ओहाइअ वि [अवधाविन] चरित्र ने ब्रट  
(वसू १, १) ।

ओहाइण न [अवघाटन] प्रायश्चित्त-विशेष  
(वव १) ।

ओहाइण न [अवघाटन] दटना, पिघान  
(वव १) ।

ओहाइणी स्त्री [टे अवघाटनी] १ पिघानी  
(दे १, १६१) । २ एक प्रकार की ओटनी  
(जीव ३)

ओहाइयि वि [अवघाटित्त] १ पिहित, बन्द  
किया हुआ; 'वइरामयकवाडोहाइयिअयो' (जं  
१—पत्र ७१) । २ स्वगित (आव ५) ।

ओहाण न [उपघान] स्वगन, टटना (वव ४) ।

ओहाण न [अवघान] उन्मोग, म्याल  
(आचा) ।

ओहाण न [अवघावन] अवक्रमण, पीछे  
हटना (निचू १६) ।

ओहाम सक [तुल्य] तीलना, तुलना  
करना । ओहामइ (हे ४, २५) । वहु  
ओहामत (कुमा) ।

ओहामिय वि [तुलित्त] तौला हुआ (पाम,  
सुपा २६६) ।

ओहामिय वि [टे] १ अनिमृत् (पड्) ।

२ तिरस्कृत (स ३५३, श्रीय ६०) । ३ बन्द  
किया हुआ, स्वगित; 'जह वीणावसरवा  
सणेण आहामिमा सव्वा' (पठम ४६, ६) ।

ओहार सक [अव + धारय] निश्चय  
करना । संक ओहारिअ (श्रमि १६४) ।

ओहार पुं [टे] १ वक्ष्य । २ नदी बगैर  
के बीच की शुष्क जगह, द्वीप । ३ श्रय,  
विभाग (दे १, १६७) । ४ जनवर-जन्तु-  
विशेष (परह १, ३) ।

ओहार पुं [अवधार] निश्चय । 'व वि  
[ 'वत् ] निश्चयवाना (द्र ४६) ।

ओहारइत्तु वि [अवधारयित्तु] निश्चय करने-  
वाना (राज) ।

ओहारइत्तु वि [अवधारयित्तु] दूसरे पर  
मिथ्याभिप्रेय लगानेवाना (राज) ।

ओहारण न [अवधारण] नियम, निश्चय  
(द्र २) ।

ओहारणी स्त्री [अवधारणी] निश्चयात्मक  
भाषा; 'ओहारणि अप्पिकारिणि च भासं न  
भासिज्ज मया न पुज्जे' (दन ८, ३) ।

ओहारिणी स्त्री [अवधारिणी] ऊपर देखा  
(भास १४) ।

ओहाय नक [आ + क्रम्] आक्रमण करना ।  
ओहायइ (हे ४, १६०, पड्) ।

ओहाय सक [अव + धाव] पीछे हटना ।  
वहु ओहायत, ओहायंत (श्रीय १२६,  
वव ८) ।

ओहायण न [अवघावन] १ अपसर्पण,  
पलायन (वव १) । २ दीक्षा से भागना, दीक्षा  
को छोड़ देना (वव ३) ।

ओहायण न [अवभावण] अपमान, अपकीर्ति  
(पिड ४८६) ।

ओहायणा स्त्री [अपहापना] लापव, लघुता  
(जय २६) ।

ओहायणा स्त्री [अपभावना] तिरस्कार,  
अनादर (उप १२६ टी, म ४१०) ।

ओहायणा स्त्री [आक्रान्ति] आक्रमण  
(काल) ।

ओहायिअ वि [अपभावित्त] १ तिरस्कृत  
(सुपा २२४) । २ ग्लान, ग्लानि-प्राप्त (वव  
८) ।

ओहायिअ वि [अवधावित्त] पलायित, अप-  
वृत्त (दनचू १, २) ।

ओहास पुं [अवहास, उपहास] हँसी,  
हास्य (प्राप्र; मै ४३) ।

ओहासण न [अवभाषण] वाचना, माग,  
विशिट् चिन्ता (आव ४) ।

ओहासिय वि [अवभाषित] याचित (पंचा १३, १०)।

ओहि पुंली [अवधि] १ मर्यादा, सीमा, हृद (गा १७०, २०६)। २ रूपि-भवायें का अतीन्द्रिय ज्ञान-विशेष (उवा, महा)। °जिण पुं [°जिन] अवधिज्ञानवाला साधु (पएह २, १)। °णाण न [°ज्ञान] अवधिज्ञान (यव १)। °णाणावरण न [°ज्ञानावरण] अवधिज्ञान का प्रतिबन्धक कर्म (कम्म १)। °उसण न [°दर्शन] रूपी वस्तु का अतीन्द्रिय सामान्य ज्ञान (अम १५)। °उम्मणावरण न [°दर्शनावरण] अवधिदर्शन का भावारक कर्म (ऊ ६)। °नाण देवो °णाण (प्राह)। °मरण न [°मरण] मरण-विशेष (भग १३, ७)।

ओहिअ वि [अतीर्ण] उत्तरा ह्रस्वा (कुमा)।

ओहिअ वि [ओधिक] औत्सर्गिक, सामान्य रूप से उक्त (प्राण १६६, २००)।

ओहिण्ण वि [अपभिन्न] रोक ह्रस्वा, अटकाया ह्रस्वा (ने १३, २४)।

ओहिस्थ न [दे] १ विपाद, लेद। २ रमन, वेग। ३ वि विचारित (दे १, १६८)।

ओहिर देवो ओहीर। ओहिरइ (पड्)।

ओहिर देवो ओहर = अ + ह। कर्म ओहि-ग्निमामि (पि ६८)।

ओहीअन वि [अवहीयमान] क्रमशः कम होता ह्रस्वा (ने १२, ४२)।

ओहीण वि [अवहीन] १ पीछे रहा ह्रस्वा (अनि ५६)। २ घबगत, उजरा ह्रस्वा (ने १२, ६७)।

ओहीर अक [नि + ट्रा] सो जाना, निद्रा लेना (हे १, १२)। वट्ट ओहीरमाण (एया १, १, विपा २, १, कप्प)।

ओहीर अक [सट्] खिन्न होना। वट्ट ओहीरत च सीघ्रत (पात्र)।

ओहीरिअ वि [अधीरित] तिरस्कृत, परिभूत (आचा २, १)।

ओहीरिअ वि [दे] १ उद्गोत। २ अवसन्न, खिन्न (दे १, १६३)।

ओहुअ वि [दे] अभिमूत, परामूत (दे १, १५८)।

ओहुंज देवो उवहुज। ओहुंजइ (भवि)।

ओहुड वि [दे] विफल, निष्फल (दे १, १५७)।

ओहुपपत वि [आकम्यमाण] जिसपर आक्रमण किया जाता हो वह (ने ३, १८)।

ओहुर वि [दे] १ अवनत, अवाङ्मुख (गउड)। २ खिन्न, निद-प्राप्त। ३ अस्त, ध्वस्त (दे १, १५७)।

ओहुइ वि [दे] १ खिन्न। १ अवनत, नीचे झुका ह्रस्वा (भवि)।

ओहुणग न [अउधूनन] १ कम्प। २ उल्लसित। ३ अपूर्व करण से मित्र ग्रन्थि का भेद करना (आचा १, ६, १)।

ओहूय वि [अवधूत] उल्लङ्घित (वृह १)।

॥ इम विरिपाइअसद्महण्णवे ओप्राराइसद्मकल्लणी एवमो तरगो समत्तो।  
तत्तमत्तोए अ चरविहाओवि समत्तो ॥

क

क पुं [क] १ प्राहृत वरुण-माला का प्रथम व्यवहाराक्षर, जिसका उच्चारण-स्थान कण्ठ है (प्राप, प्रमा)। २ ब्रह्मा (दे ५, २६)। ३ किए हुए पाप या न्योकार, 'कति कठं मे पाप' (आवम)। ४ न, पानी, जल (स ६११)। ५ नुल (नुर १६, ५५)। देवो °अ = क। क देवो किम् (गउड, महा)।

कअवत देवो कय-अ = वृत्तवत् (प्राह ३५)।

कड वि व. [कति] कितना, 'तं नठे। कइदिसं ओमासेइ' (भग)। °अ वि [°क] कतिपय, कईएक; 'ओएमि जाव तुज्जं, पियरं कइएमु दिपहेसु' (पउम ३४, २७)। °अव वि [°पय] कतिपय, कईएक (हे १, २५०)। °इ अ [°चित्त] कईएक (उप पृ ३)। °थ वि [°थ] कितनावी, कौन संख्या का? (विमे

६१७)। °वइय. °वय, °वाह वि [°पय] कईएक (पउम ६१, १६, उवा, पट्, कुमा, हे १, २५०)। °वि अ [°अपि] कईएक (वाल, महा)। °विह वि [°विध] कितने प्रकार का (भग)।

कइ वि [कृत्तिन] १ विद्वान्, परिदृष्ट। २ पुरणवान् (सूत्र २, १, ६०)।

कइ अ [कचित्] कहीं, किसी जगह में (इसत्तू २, १४)।

कइ अ [कदा] कब, किम समय?, 'एमाइ उण मज्झो यणभारं कइ गु उव्वहइ?' (गा ८०३)।

कइ पु [कपि] बन्दर, वानर (पाम)। °दीव पुं [°द्वीप] द्वीप-विशेष, वानर द्वीप (पउम ५५, १६)। °द्धय, °धय पुं [°ध्वज]

१ वानर-द्वीप के एक राजा का नाम (पउम ६, ८३)। २ अजुंन (हे २, ६०)। °हसिअ न [°हसित] १ स्वच्छ आकाश में अचानक बीजली का दर्शन। २ वानर के समान विकृत मुँह का हँसना (भग ३, ६)।

कइ देवो कवि = कवि (गउड, सुर १, २७)।

°अर (अप) पु [कवि] श्रेष्ठ कवि (पिंग)।

°मा ली [°त्व] कवित्व, कविपन (पड्)। °राय पुं [°राज] १ श्रेष्ठ कवि (पिंग)। २ 'गउडवहो' नामक प्राकृत काव्य के कर्ता वाक्पतिराज-नामक कवि, 'आसि कइरायइवो वप्पइराओ ति पएहलवो' (गउड ७६७)।

कइअ वि [क्रयिक] खरीदनेवाला, ग्राहक; 'किणतो कइओ होइ, विकिणतो य वारिणो' (उत्त ३५, १४)।

कइअंक } पुं [दे] निकर, नमूह (दे २,  
कइअमसइ } १३) ।

अइअव न [कनव] कपट, दम्न (कुमा प्राप्र) ।

कइआ अ [कडा] कव, किस समय ? (गा  
१३८, कुमा) ।

कइउल्ल वि [दे] थोडा, अल (दे १, २१) ।

कइइ पुं [कवीन्द्र] श्रेष्ठ कवि (गवड) ।

कइमच्छु श्री [कपिकच्छु] वृक्ष-विशेष,  
केवांच, कौल, क्वाल (गा ५३२) ।

कइगई श्री [कंकयी] राजा दशरथ की एउ  
रानी (पउम २५, २१) ।

कइरथ पुं [कपिरथ] १ वृक्ष-विशेष, कैथ का  
पेठ । २ फल-विशेष, कैथ, कैया (गा ६४१) ।

कइम वि [मतम] बहुत में से कौन सा ? (हे  
१, ४८, गा ११६) ।

कइयउव देखो कइअव (तंदु ५३) ।

कइयहा (अप) अ [कडा] कव, किस समय ?  
(सण) ।

कइयाड अ [मवाचिन्] किसी समय में  
(कुप्र ८१३) ।

कइर देखो कयर = कतर (पिड ४६६) ।

कइर पुं [कइर] वृक्ष विशेष, 'जं कइरल्लस-  
हिट्टा दह दजकोडी दविणमत्थि' (था १६) ।

कइरव न [कैरव] कमल, कुमुद (हे १, १५०) ।

कइरव पुन [कैरव] कुमुद, 'कइरवो' (सजि ५) ।

कइरविणी श्री [करविणी] कुमुदिनी, कमलिनी  
(कुमा) ।

कइलाम पु [कैलास, °श] १ न्वनाम-स्वात  
पर्वत विशेष (पाप्र, पउम ५, ५३, कुमा) ।

२ मेरु पर्वत (निचू १३) । ३ देव-विशेष,  
एक नाग-राज (जीव ३) । संथ पुं [°शय]  
महादेव, शिव (कुमा) । देवी कैलास ।

कइलामा श्री [कैलासा, °शा] देव-विशेष  
की एक राजवानी (जीव ३) ।

कइल्लवइल्ल पु [दे] न्वच्छन्द चारी बैल  
(दे २, २५) ।

कइविगा श्री [दे] भरतन विशेष, पीकदान,  
पीकगानी (गाया १, १ टी—पत्र ८३) ।

कइम (अप) वि [कैटग] कैसा (कुमा) ।

कइया (अप), देवी कइआ (नुपा ११६) ।

कइयय देवी कइयय (पउम २८, १६) ।

कईस पुं [कवीश] श्रेष्ठ कवि, उत्तम कवि  
(पिग) ।

कईसर पुं [कवीश्वर] उत्तम कवि (रंभा) ।

कउ पु [कनु] यज्ञ (कप्पू) ।

कउ (अप) अ [कुन] कहाँ से (हे ४, ४१६) ।

कउअ वि [दे] ? प्रवान, मुख्य । २ पुंन  
चिन्ह, निशान (दे २, ५६) ।

कउच्छेअय पु [कौन्नेयक] पेठ पर बँधी हुई  
तलवार (हे १, १६२, पड) ।

कउड न [दे] ककुट देवी कउड = ककुद  
(पह) ।

कउरअ } पुं [कौरव] १ कुह देश का  
कउरव } राजा । २ पुत्री कुह वंश में  
उत्पन्न । ३ वि कुह देश या वंश से सन्व  
रखनेवाला । ४ कुह देश में उत्पन्न (प्राप्र,  
नाट, हे १ १६२) ।

कउल न [दे] १ करीप, गोडैडा का वृणं (दे  
२, ७) ।

कउल न [कौल] तान्त्रिक मत का प्रवर्तक  
ग्रन्थ, कौलोपनिषद् वगैरह । २ वि शक्ति का  
उपासक । ३ तान्त्रिक मत को जाननेवाला ।

४ तान्त्रिक मत का अनुयायी । ५ देवता-  
विशेष;

'विससिज्जंतमहापमुदं-  
सणममपरोप्पराह्ढा ।

गयरो च्चिय गघरॉड  
कुराति तुह कटनराओरो'  
(गउड) ।

कउलव देखो कउरव (चड) ।

कउसल पुन [कौशल] चतुराई, 'कउमलो'  
(सजि ६, प्राक १०) ।

कउसल न [कौशल] कुशलता, दक्षता,  
होशियारी (हे १, १६२, प्राप्र) ।

कउइ न [दे] नित्य, सदा, हमेशा (दे २, ५) ।

कउइ पुन [ककुद] ? बैल के बंधे का  
कुब्बड़ । २ सफेद छत्र वगैरह राज-चिह्न ।

३ पर्वत का अग्रभाग, टोंच (हे १, २०५) ।

४ वि प्रवान, मुख्य,  
'कलरिनिपयइरुनंतीतनतानवसकलहानिरामिसु ।  
सहेमु रज्जमाणा, रयंती सोउदियवसइ' ।

(गाया १, १७) । देवी ककुइ ।

कउहा श्री [ककुम्] ? दिरा (कुमा) । २  
शोभा, ज्ञान्ति । ३ चम्पा के पुष्पों की माला ।

४ इस नाम की एक रागिणी । ५ शास्त्र ।  
६ विकीर्ण केश (हे १, २१) ।

कउहि वि [ककुदिन्] वृषभ, बैल (अणु  
१४२) ।

कए } अ [कृते] वास्ते, निमित्त, लिए,  
कएण } 'ततो सो तस्स कए खरोइ खारणी-  
कएण } 'रोगेगठाणेनु' (कुम्मा १५, कुमा),

'अवरएहमजिरीण कएण कामो बहुइ चार्व'  
(गा ४७३),

'लजा चत्ता नील च  
सँडिअ अजसधोसणा दिरणा ।

जन्स कएणं पिअसहि ।  
सो वेअ जणो जणो जाओ'  
(गा ५२५) ।

कएल्ल वि [कृत] किया हुआ (मुख  
२, १५) ।

कओ अ [कुन] कहाँ से ? (आवा, उव,  
रयण २६) । 'हुत्त त्रिवि-[दे] किस तरफ,  
'कओहुत्त गतव्वं ?' (महा) ।

कओ अ [क] कहाँ, किस म्यान में, 'कओ  
वयामो ?' (गाया १, १४) ।

कओण्ह वि [कहुण्ण] थोडा गरम (धर्मवि  
११२) ।

कओल देवी कओल (से ३, ४६) ।

कअ [कम्] उदक, जन (तदु ५३) ।

कड अ [दे] किससे, 'कइ पइ तिक्किच ए  
गइलालस' (विक १०२) ।

कक पु [कहु] ? पक्षि-विशेष (परह १, १,  
४; अनु ४) । २ एक प्रकार का मजबूत  
श्रीर तीक्ष्ण लोहा (उप ४६४) । ३ वृक्ष-  
विशेष, 'कक्कलसरलनयण' (उप १०३१  
टी) । °पत्त न [°पत्र] वाण-विशेष, एक  
प्रकार का वाण, जो उड़ता है (वेणी १०२) ।

°लोह पुन [°लोह] एक प्रकार का लोहा  
(उप ५ ३२६, सुपा २०७) । °वत्त देवी  
°पत्त (नाट) ।

कंकड पुं [कङ्कति] वृक्ष-विशेष, नागवला-  
नामक शोपवि (उप १०३१ टी) ।

ककड पुं [कङ्कट] वर्म, कवच, 'रामो चादे  
सकंके दिट्ठी देतो' (पउम ४४, २१, श्रौप) ।

कंकडइय वि [कङ्कटित] कवचवाला, वर्मित  
(परह १, ३) ।

कंकडुअ } पुं [काङ्कडुरु] दुर्मेय माप,  
कंकडुग } उरद की एक जाति, जो कभी  
पकता ही नहीं, 'कंकडुयो विव मामो, सिदि  
न उवेइ जस्स ववहोरो' (वव ३)।  
ककण न [कङ्कण] हाथ का आभरण-विशेष,  
कंगन (श्रा २८, गा ६६)।  
कङ्कण पुं [दे] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक  
जाति (उत्त ३६, १४७)।  
ककणी स्त्री [कङ्कण] हाथ का आभरण-  
विशेष: 'सयमेव मकणीए धणीए त ककणी  
वदा' (कुप्र १८५)।  
ककति पु [कङ्कति] ग्राम- विशेष (राज)।  
ककतिज्ज पुत्री [काङ्कतीय] माघराज वश में  
उत्पन्न (राज)।  
कक्यपुं [कङ्कत] १ नागवला-नामक श्रोपवि।  
२ सर्प की एक जाति। ३ पुं स्त्री कंवा, केश  
सँवारने का उपकरण (सूत्र १, ४)।  
ककलास पु [कङ्कलास] ककॉट, साप की  
एक जाति (पाप्र)।  
ककसी स्त्री [दे] कंधी, केश सँवारने का  
उपकरण (ती १५)।  
ककाल न [कङ्काल] चमडी और मास रहित  
अस्थि-मञ्जर, 'ककालवेसाए' (श्रा १६),  
'अह नरकरंकककालसकुले भोसणमसाणे'  
(वजा २०, दे २, ५३)।  
ककवास पु [कङ्कावश] वनस्पति विशेष,  
(परण ३३)।  
ककिल्ल देवो ककेल्लि (मुपा ५५६, कुमा)।  
ककण देखो ककण = दे (सुख ३६, १४७)।  
ककलि पुं [कङ्कलि] अशोक वृक्ष (मै ६०  
विरू २८)।  
ककलि पु [दे कङ्कलि] अशोक वृक्ष (दे २,  
१२, गा ८०४; सुपा १४०, ५६२, कुमा)।  
ककड न [दे. ककॉट] १ वनस्पति विशेष,  
ककरैल, एक प्रकार की सब्जी, जो वर्षा में  
ही होती है (दे २, ७, पाप्र)। २ पु एक  
नागराज। ३ साप की एक जाति (हे १,  
२६, पड)।  
ककोल पु [कङ्कोल] १ कङ्कोल, शीतल-चीनी  
के वृक्ष का एक मेद। २ न. उस वृक्ष का  
फल, 'सकपूरेलाककोल तवोल' (उप १०३१  
टी)। देखो ककोल।

कंख सक [काङ्ख] चाहना, वांछना। कंखइ  
(हे ४, १६२, पड)।  
कंखण न [काङ्खण] नीचे देखो (धर्म २)।  
कंखी स्त्री [काङ्खा] १ चाह, अभिलाष (सूत्र  
१, १५)। २ आसक्ति, गृदि (भग)। ३  
अन्य धर्म की चाह अथवा उममे आसक्ति  
रूप सम्यक्त्व का एक अतिचार (पडि)।  
°मोहणिज्ज न [°मोहनीय] कर्म-विशेष  
(भग)।  
कखि वि [काङ्खिन्] चाहनेवाला (श्राचा,  
गउड; सुर १३, २४३)।  
कखिअ वि [काङ्खिअ] १ अभिलषित। २  
काक्षा युक्त, चाहवाला (उवा, भग)।  
कखिर वि [काङ्खिर] चाहनेवाला, अभि-  
नापी (गा ५५, सुपा ५३७)।  
कगणी स्त्री [दे] वल्ली-विशेष, कागनी  
(परण १)।  
कंगु स्त्री [कङ्गु] १ धान्य विशेष, काँगन या  
काँगो (ग ७, दे ७, १)। २ वल्ली-विशेष  
(परण १)।  
कगुलिया स्त्री [दे कङ्गुलिअ] जिन-मन्दिर  
की एक बडी आरातना, जिन-मन्दिर में या  
उमके नजदीक लघु या वृद्ध नीति का करना  
(धर्म २)।  
ककण पुन [काङ्कण] १ एक देव-विमान  
(देवेन्द्र १३१)। २ वि सोने का, सुवर्ण का,  
'ककण खंड' (वजा १५८)। °पह न [°प्रभ]  
१ रत्न-विशेष। २ वि रत्न-विशेष का बना  
हुआ (देवेन्द्र २६६)। °पायव पु [°पाटप]  
वृक्ष-विशेष (स ६७३)।  
ककण पु [काङ्कण] १ वृक्ष विशेष। २ स्व-  
नाम-व्यात एक श्रेष्ठो (उप ७२८ टी)। ३  
न सुवर्ण, सोना (कप्प)। °उर न [°पुर]  
कलिग देश का एक मुख्य नगर (आक)।  
°कूड न [°कूट] १ सौमनम-नामक वक्षस्कार  
पर्वत का एक शिखर (ठा ७)। २ देव-  
विमान-विशेष (मम १२)। ३ हृचक पर्वत  
का एक शिखर (ठा ८)। °केअई स्त्री  
[°केतकी] लता-विशेष (कुमा)। °तिलय  
न [°तिलक] इस नाम का विद्याधरो का  
एक नगर (इक)। °थ्यल न [°स्थल] स्व-  
नाम व्यात एक नगर (दम)। °वलागग न  
[°वलानक] चौरासी तीर्थों में एक तीर्थ का

नाम (राज)। °सेल पु [°शैल] मेरु-  
पर्वत (कप्प)।  
कंचणग पु [काङ्कणक] १ पर्वत-विशेष  
(सम ७०)। २ काङ्कणक पर्वत का निवासी  
देव (जीव ३)।  
कचणा स्त्री [कङ्कणा] स्वनाम व्यात एक  
स्त्री (परह १, ४)।  
कचणार पुं [कङ्कणार] वृक्ष-विशेष (पउम  
५३, ७६, कुमा)।  
कंचणिया स्त्री [काङ्कणिका] छद्राक्ष माला  
(श्रोप)।  
कचा (पै) देखो कणगा (प्राप्र)।  
कंचि स्त्री [काङ्कि, °कञ्जी] १ स्वनाम-व्यात  
कंची एक देश (कुमा)। २ कटी-मेखला,  
कमर का आभूषण (पाप्र)। ३ स्वनाम-व्यात  
एक नगर (सुपा ४०६)।  
कची स्त्री [दे] मुशल के मुँह में रखी जाती  
लोहे की एक बलयाकार चीज, सामी या साम  
(दे २, १)।  
कचीरय न [दे] पुष्प विशेष (वजा १०८)।  
कचीरय न [काङ्कौरत] सुरत-विशेष (वजा  
१०८)।  
कचु } पु [कङ्कुक] १ स्त्री का स्तनाच्छा-  
कचुअ } दक वस्त्र, चोली (पउम ६, ११,  
पाप्र)। २ सर्प-स्वक्, साप की कंचली, कंचुली  
(विने २५१७)। ३ वर्म, कवच (भग ६, ३३)।  
४ वृक्ष-विशेष (हे १, २५, ३०)। ५ वस्त्र,  
कपडा, 'तो उज्जिअण लज्जा (लज्ज), ओईधड  
कचुय सरीराओ' (पउम ३४, १५)।  
कंचुइ पु [कङ्कुकिन्] १ अन्त पुर का प्रती-  
हार, चपरासी (णया १, १, पउम ८, ३६,  
सुर २, १०६)। २ साँप (विसे २५१७)।  
३ यव, जव। ४ चणक, चना। ५ जुआर,  
अग्रहन में होनेवाला एक प्रकार का अन्न,  
जोन्हरी। ६ वि जिमने कवच धारण किया  
हो वह (हे ४, २६३)।  
कचुइअ वि [कङ्कुकित] कचुकुवाला (कुमा,  
विपा १, २)।  
कचुइज्ज पु [कङ्कुकिय] अन्त पुर का प्रती-  
हार (भग ११, ११)।  
कंचुइज्जत वि [कङ्कुकामान] कचुकु की  
तरह आचरण करता, 'रोमचकचुइज्जत-  
सव्वगतो' (सुपा १८१)।

कंचुग देखो कंचुअ (श्राप ६७६, त्रिसे २५२८) ।

कंचुगि देना कंचुड (चण) ।

कचुलिआ ली [कञ्चुलिआ] कचली, चोली (कप्प) ।

कंछुली ली [दे] हार, कण्ठाभरण (भवि) ।

कजिअ न [काञ्जिक] काञ्जिक (सुर ३, १३३, कप्प) ।

कट देखो कटग (पिड २००) ।

कटअन वि [कण्टकाचमान] १ कण्टक जैता, कण्टक की तरह आचरता (से ६, २८) । २ पुनक्ति होता (अचु ५८) ।

कटइअ वि [कण्टकिन] १ कण्टकवाला (से १, ३२) । २ रोमाञ्चित, पुलकित (कुमा, पाप्र) ।

कटइज्जत देखो कटअन (गा ६७) ।

कटडल पु [कण्टकिल] १ एक जात का बान । २ वि कण्टको ने व्यास (सूत्र १, ५) ।

कटडल देखो कटइअ (पण्ह १, १, कुमा) ।

कंटडवि वि [दे] कण्ट-प्रोत (दे २, १७) ।

कटकिअ देखो कंटइअ (दे २, ७५) ।

कटग } पु [कण्टक] १ काटा, कण्टक  
कटय } (कम, हे १, ३०) । २ रोमाञ्च,

पुलक (गा ६७) । ३ शत्रु, दुश्मन (साया १, १) । ४ वृद्धिक की पूँछ (वव ६) । ५ अन्य (विपा १, ८) । ६ दुःखोपादक वस्तु (उत्त १) । ७ ज्यातिप-शास्त्र प्रसिद्ध एक कुयोग (गण १६) । ८ वौदिया ली [दे] कण्टक-शास्त्र (आचा २, १, ५) ।

कटाडी ली [दे] वनस्पति विशेष, कण्ट-कारिका, भटकईया (दे २, ४) ।

कटिय वि [कण्टिक] १ कण्टकवाला, कण्टक-युक्त । २ वृत्र विशेष (उत्त १०३१ टी) ।

कंटिया ली [कण्टिका] वनस्पति-विशेष (वृह १, आनु १) ।

कटी ली [दे] उग्रकण्ठ, कण्टिका, पर्वत के नजदीक की भूमि,

'एयामो पञ्चास्वणफननरंभुरिया भूमिसज्जुग ।

१टोमो निज्जवंति व, अमंदय रमंदंभामोया'

(गडह) ।

कंटुल } [दे] देखो ककोड = (दे) (पाप्र  
कंटोल } दे २, ७) ।

कठ पु [दे] १ सूकर, सूअर । २ मर्यादा, सीमा (दे २, ५१) ।

कंठ पु [कण्ठ] १ गला, घाटी (कुमा) । २ समीप, पास । ३ अश्चल, 'कंठे वत्याईएण णिवट्ठगठिमि' (दे २, १८) । ४ दरखलिअ वि [दरखलिअ] गद्गद (पाप्र) । ५ सुरय न [सुरज] आभरण विशेष (साया १, १) । ६ सुरवी ली [सुरवी] गले का एक आभरण (श्राप) । मुही ली [मुखी] गले का एक आभरण (राज) । ७ सुत्त न [सूत्र] १ नुरत-त्रय-विशेष । २ गले का एक आभूषण (श्राप) ।

कठ वि [कण्ठय] १ कण्ठ ने उत्पन्न । २ मरल, सुगम (निवू १५) ।

कठकुची ली [दे] १ वल्य वगैरह के अञ्चल में बँधी हुई गाँठ । २ गले में लटकती हुई लम्बी नाडी-ग्रन्थि (दे २, १८) ।

कठवीणार पु [दे] छिद्र, विवर (दे १, २४) ।

कठमल न [ट] १ ठठरी, मृत-शिविका । २ यान-पाय, वाहन (दे २, २०) ।

कठमाल पुञ्जी [कण्ठमाल] रोग-विशेष (कुप्र ४७१) ।

कठय पुं [कण्ठक] म्वनाम-न्याय एक चौर-नायक (महा) ।

कंठाकठि अ [कण्ठाकण्ठि] गले-गले में ग्रहण कर (साया १, २—पत्र ८८) ।

कठाल वि [कण्ठयन्] बडा गलावाला (वमंवि १०१) ।

कठिअ पु [दे] चपरासी, प्रतीहार (दे २, १५) ।

कठिआ ली [कण्ठिका] गले का एक आभूषण (गा ७५) ।

कठीरअ देखो कठीरव (किरात १७) ।

कठीरव पु [कण्ठीरव] सिंह, शार्ङ्गल (प्रयौ २१) ।

कंठ सक [कण्ठ] १ ब्रीहि वगैरह का छिलका अलग करना । २ खोचना । ३ बुजवाना । वक्क, कडत (श्राप ४६८, गा ६६३), कडित (साया १, ७) ।

कड न [काण्ड] १ अणुल का असंख्यातवा

भाग; 'कंडति एत्य भन्इ अणुलभागो अस-खेज्जो' (पव २६० टी) ।-

कड पुंन [काण्ड] १ दण्ड, लाठी । २ निन्दित समुदाय । ३ पानी, जल । ४ पर्व । ५ वृक्ष का मूलावली । ६ वृक्ष की शाखा । ७ वृक्ष का वह एक भाग, जहाँ से शाखाएँ निकलती हैं । ८ अन्य का एक भाग । ९ गुच्छ, न्तवक । १० अरव, घोडा । ११ प्रेत, पितृ और देवता के यज्ञ का एक हिस्सा । १२ रोड, पृष्ठ भाग की लम्बी हड्डी । १३ खुशामद । १४ श्लाघा, प्रशंसा । १५ गुप्तता, प्रच्छन्नता । १६ एकान्त, निर्जन । १७ वृण-विशेष । १८ निर्जन पृथ्वी (हे १, ३०) । १९ अवनम, प्रन्ताव (गा ६३३) । २० समूह (साया १, ८) । २१ वाण, शर (उत्त ६६६) । २२ देव-विमान-विशेष (राज) । २३ पर्वत वगैरह का एक भाग (सम ६५) । २४ खण्ड, टुकडा, अवयव (आनु १) । २५ च्यारिय पुं [च्यारिक] १ इन नाम का एक ग्राम । २ एक ग्राम-नायक (वव ७) । देखो कडग, कडय ।

कंड पु [दे] १ फेन, फीन । २ वि दुर्बल । ३ विपन्न, विपत्ति-ग्रस्त (दे २, ५१) ।

कडइअ देखो कटइअ (गा ५५८) ।

कडइज्जत देखो कटइज्जत (गा ६७ अ) ।

कडग न [कण्डक] १ संन्यासीत सयम-स्थान-समुदाय (पिड ६६, १००) । २ विभाग, पर्वत आदि का एक भाग (सूत्र १, ६, १०) ।

कडग पुन [काण्डक] देखो कड = काण्ड (आचा, आचम) । २५ संयम श्रेणि-विशेष (वृह ३) । २६ इस नाम का एक ग्राम (आनु १) । देखो कंडय ।

कंडण न [कण्डण] ब्रीहि वगैरह को नाफ करना, तुप पृथक्करण (श्रा २०) ।

कडपडवा ली [दे] यवनिका, परदा (दे २, २५) ।

कडय पुन [काण्डक] देखो कड = काण्ड तथा कडग । २७ वृक्ष विशेष, राक्षसों का चैत्य वृक्ष, 'तुनसी भूयाण भवे, रक्खसाएँ च कडयो' (वा ८) । २८ तावीज, गण्डा, यन्त्र; 'वज्जति कंडयाइ, पटणीकीरति अणयाइ' (सुर १६, ३२) ।

कडरीय पु [कण्डरीक] महापद्म राजा का एक पुत्र, पुराणिक का छोटा भाई, जिसने

वपों तक जैनी दीक्षा का पालन कर अन्त में उनका त्याग कर दिया था (गाथा १, १६, उव)।

कंडरीय वि [कण्डरीक] १ अशोभन, अ-सुन्दर। २ भ्रप्रवान (सूत्रनि १४७, १५३)।

कडलि } स्त्री [कन्दरिका] गुफा, कन्दरा  
कडलिआ } (पि ३३३, हे २, ३८, कुमा)।

कंडवा स्त्री [कण्डवा] वायु-विशेष (राय)।

कडार सक [उत् + कृ] खुदना, छील-छाल कर ठीक करना। सक

‘गूण दुवे इह पभावइणो जअम्मि,  
जे देहणम्मवणजोव्वणदाएणकत्ता।

एके षडेइ पढम कुमरोएमंग,

कडारिऊण पमडेइ पुणो दुईओ’ (कप्पू)।

कडावेल्ली स्त्री [काण्डवल्ली] वनस्पति-विशेष (परण १)।

कंडिअ वि [कण्डित] साफ-सुधरा किया हुआ (दि १, ११५)।

कडियायण न [कण्डिकायन] वैशाली (विहार) का एक चैत्य (भग १५)।

कडिह पुं [काण्डिल्य] १ कारिडल्य-गोत्र का प्रवर्तक ऋषि-विशेष। २ पुत्री कारिडल्य गोत्र उत्पन्न। ३ न गोत्र-विशेष, जो मारुडव्य गोत्र की एक शाखा है (ठा ७-पत्र ३६०)।

‘ायण पुं [‘ायन] न्वनाम ह्यात ऋषि-विशेष (चंद १०)।

कंडु देखो कडू (राज)।

कडु देखो कडु (सूत्र १, ५)।

कडुअ सक [कण्डूय] खुजवाना। कंडूअइ (हे १, १२१, उव), कडुमए (पि ४६२)। वकू. कडुअत (गा ४६०), कडुअमाण (भ्रामू २८)।

कडुअ पुं [कान्दविक] हलवाई, मिठाई बेचने-वाला, ‘राया चिसेइ, कओ कडुयस्स जल-कतरयणसपती?’ (भावम)।

कडुअ } पुं [कण्डुक] गेंद (दि ३, ५६,  
कडग } राज)।

कडुजुय वि [काण्डजु] वाण की तरह सीबा (स ३१७, ग ३५२)।

कडुयग वि [कण्डूयक] खुजानेवाला (भ्रौप)।

कडुयण न [कण्डूयन] १ खुजली, खाज, पामा, रोग-विशेष। २ खुजवाना, ‘पामागहि-

यस्स जहा, कडुयण दुक्खमेव मूढस्स’ (स ५१५, उव २६४ टी; गडड)।

कंडुयय देखो कडुयग, ‘अकडुयएहि’ (परह २, १—पत्र १००)।

कडुरु पुं [कण्डुरु] स्वनाम-ख्यात एक राजा, जिसने रामचन्द्र के भाई भरत के साथ जैनी दीक्षा ली थी (पउम ८५, ५)।

कडू स्त्री [कण्डू] १ खुजलाहट, खुजवाना (गाथा १, ५)। २ रोग-विशेष, पामा, खाज (गाथा १, १३)।

कडूइ स्त्री [कण्डूति] ऊपर देखो (गा ५३२, सुर २, २३)।

कडूइअ न [कण्डूयित] खुजवाना (सूत्र १, ३, ३, गा १८१)।

कडूय देखो कडुअ = कण्डूय्। कडूयइ (महा)। वकू. कडूयमाण (महा)।

कडूयग वि [कण्डूयक] खुजानेवाला (ठा ५, १)।

कडूयण देखो कडुयण (उप २५६, सुपा १७६, २२७)।

कडूयय देखो कडूयग (महा)।

कडूर पु [दे] वक, वयुना (दि २, ६)।

कडूल वि [कण्डूल] खाजवाला, कण्डूयुक्त (कुमा)।

कंत सक [कृत] १ काटना, छेदना। २ काटना, चरखे से सूता बनाना, ‘सल्लं कतति अप्पणो’ (सूत्र १, ८, १०)। कंतामि (पिडमा ३५)।

कत वि [कान्त] १ मनोहर, सुन्दर (कुमा)। २ अमिलपित, वाञ्छित (गाथा १, १)। ३ पु पति, स्वामी (पात्र)। ४ देव विशेष (मुज १६)। ५ न कान्ति, प्रभा (भाचा २, ५, १)।

कत वि [कान्त] गल, शुजरा हुआ (प्राप)।

कना स्त्री [कान्ता] १ स्त्री, नारी (सुर ३, १४, सुपा ५७३)। २ रावण की एक पत्नी का नाम (पउम ७४, ११)। ३ एक योग-दृष्टि (राज)।

कतार न [कान्तार] १ अरण्य, जंगल (पात्र)। २ दुष्ट, हूपित। ३ निराश्रय। ४ पागल (कप्पू)।

कंतार पुन [कान्तार] ‘जल-फलादि-रहित अरण्य, ‘कतारो’ (सम्मत् १६६)।

कति स्त्री [कान्ति] १ तेज, प्रकाश (सुर २, २३६)। २ शोभा, सौन्दर्य (पात्र)। ३ इस नाम की रावण की एक पत्नी (पउम ७४, ११)। ४ अहिंसा (परह २, १)। ५ इच्छा। ६ चन्द्र की एक कला (राज, विक १०७)।

‘पुरी स्त्री [‘पुरी] नगरी-विशेष (ती)। ‘म, ‘ह वि [‘मत्] कान्ति युक्त (भावम, गडड, सुपा ८, १८८)।

कति स्त्री [कान्ति] १ परिवर्तन, फेरफार। २ गमन, गति (नाट—विक्र ६०)।

कतु पुं [दे] काम, कामदेव (दि २, १)।

कथक } पुं [कन्थक] अश्व की एक जाति  
कथग } (ठा ४, ३, उत २३), ‘जहा से  
कथय } कवोयाण आइन्ने कथए सिया’  
(उत ११)।

कथा स्त्री [कन्था] कथबी, गुदबी, पुराने वक से बना हुआ झोढना (हे १, १८७)।

कथार पुं [कन्थार] वृक्ष विशेष (उप २२० टी)।

कथारिया } स्त्री [कन्थारिका, ‘री] वृक्ष-  
कथारी } विशेष (उप १०३१ टी)। ‘वण  
न [‘वन] उजैन के समीप का एक जंगल,  
जहा अश्वन्तीमुकुमार-नामक जैन मुनि ने अ-  
शन व्रत किया था (भाक)।

कथेर पु [कन्थेर] वृक्ष-विशेष (राज)।

कन्थेरी स्त्री [कन्थेरी] कण्टकमय वृक्ष विशेष (उर ३, २)।

कद सक [कण्डू] कांढना, रोना। कदइ (पि २३१)। मूका कदिसु (पि ५१६)। वकू कंडव (गा ५८४), कण्डमाण (गाथा १, १)।

कद वि [दे] १ दड़, मजबूत। २ मत्त, उन्मत्त। ३ न स्तरण, आच्छादन, (दि २, ५१)।

कंद पु [कण्ड, कण्डित] व्यन्तर देवी की एक जाति (ठा २, ३—पत्र ८५)।

कंद पु [कण्ड] १ गूदेदार और बिना रेशे की जड़, जमीकण्ड, सूरन शकरकण्ड, विलारीकण्ड, शोल, गाजर, लहसुन वगैरह (जी ६)। २ मूल, जड़ (गडड)। ३ छन्द-विशेष (पिंग)।

कद पु [कण्ड] कार्तिकेय, पडानन (कुमा; हे २, ५, पड)।

कन्दणया स्त्री [कन्दनता] मोटे स्वर से  
विज्ञाना (ठा ४, १)।

कन्दप पु [कन्दर्प] १ कान्देव, घनग (पाप्र)।  
२ कानोद्दीपक हास्यादि, 'कन्दपे कुङ्कुम्' (पडि, एया १, १)। ३ देव-विशेष (पत्र ७३)। ४ काम संवन्धी कपाया ५ वि काम-  
पुत्र, कामी (बृह १)।

कन्दप वि [कन्दर्प] कान्दर्प संवन्धी (पत्र ७३)।

कन्दपि वि [कन्दर्पिन्] कामोद्दीपक, कन्दर्प  
का उत्तेजक (वव १)।

कन्दपिच पु [कान्दपिक] १ मजाक करने  
वाला भाण्ड वगैरह (श्रीप, भग)। २ भाण्ड-  
प्राय देवों की एक जाति (पण्ड २, २)। ३  
हान्य वगैरह भाण्ड कर्म ने आजीविका  
चलातेवाला (पण्ड २०)। ४ वि. काम-  
संवन्धी (बृह १)।

कन्दर न [कन्दर] १ रत्न, विवर (एया १,  
२)। २ गृहा, गुफा (उवा, प्राप् ७३)।

कन्दरा स्त्री [कन्दरा] गृहा, गुफा (सि ८,  
कडरी) १६, राज)।

कन्दल पुं [कन्दल] १ शकुर, प्ररोह (मुपा  
४)। २ लता विशेष (एया १, २)।

कन्दल न [कं] कपान (दे २, ४)।  
कन्दलन पुं [कन्दलक] एक सुरवाता जानवर-  
विशेष (पण्ड १)।

कन्दलिअ } वि [कन्दलिन] शंङुरित (कुमा,  
कन्दलिइ } पि ५६५)।

कन्दली स्त्री [कन्दली] १ लता विशेष (मुपा  
६, पत्र ५३, ७६)। २ शकुर, प्ररोह,  
'दारिद्र्यदुमकन्दनीवणद्वयो' (उप ७२८ टी)।

कन्दली स्त्री [कन्दली] कन्द-विशेष (उत्त ३६,  
६८, ६९)।

कन्दविय पु [कान्दविक] हनवाई, मिठाई  
वेचनेवाला (उत्त २११ टी)।

कन्दिद पुं [कन्देन्द्र, कन्दितेन्द्र] कन्दित-  
नामक देव-निर्वाय का इन्द्र (ठा २, ४—पत्र  
८५)।

कण्डिय पुं [कण्डित] १ वायुवन्तर देवों की  
एक जाति (पण्ड १, ४; श्रीप)। २ न रोदन,  
आम्बर (उत्त २)।

कण्डिर वि [कण्डिन] कौदनेवाला (नवि)।  
कण्डी स्त्री [कं] मूला, कन्द-विशेष (दे २ १)।

कण्डु पुत्री [कण्डु] एक प्रकार का वरतन,  
जिसमें भाण्ड वगैरह पकाया जाता है, हांडा  
(विपा १, ३, सूत्र १, ५)।

कण्डुअ पु [कण्डुक] १ नौद (पाप्र, म्वज ३६,  
नै ६१)। २ वनस्पति-विशेष (पण्ड १)।

कण्डुअ पुं [कान्दविक] हनवाई, मिठाई  
वेचनेवाला (दे २, ४१, ६६३)।

कण्डुक देखो कण्डुअ (सूत्र २, ३, १६)।

कण्डुग देखो कण्डुअ (राज)।

कण्डुन [कं] देखो कण्डो (पाप्र; धर्मा ५,  
सण)।

कण्डुवच्य पुन [कं] कन्द-विशेष (मुत्र ३६,  
६८)।

कण्डुय देखो कण्डुअ (सूत्र ६८)।

कण्डोइय देखो कण्डुअ (मुपा ३८५)।

कण्डोइ न [कं] नील कमल (दे २, ६, प्राप्र,  
पड, गा ६२२, उत्तर ११७, कप्प, नवि)।

कण्डे देखो स्वय = कन्द (नाट, वज्जा ३६)।

कण्डरा स्त्री [कन्दरा] ग्रीवा, गरदन (पाप्र,  
सुर ४, १६६, गण ६)।

कण्डार पु [कं] कन्द, ग्रीवा का पीड़ना भाग  
(उप पृ ८६)।

कण्ड शक [कण्ड] कापना, हिलना। कण्ड  
(हे १, ३०)। वक्र कपत, कण्डमाण (महा,  
कप्प)। वक्र कपिज्जत (सि ६, ३८, १३,  
५६)। प्रयो, वक्र कयावित (मुपा ५६३)।

कण्ड पुं [कण्ड] अर्थ्य, चलन, हिलन (कुमा,  
श्रात्)।

कण्ड पु [कं] पयिक, मुनाकिर (दे २, ७)

कण्डण न [कण्डण] १ कण्ड, हिलन (नवि)।  
२ रोग-विशेष। °वाडअ वि [°वातिक]

कण्ड वायु नामक रोगवाला (श्रु ६)।

कण्डि वि [कण्डिण] कापनेवाला (कप्प)।

कण्डि वि [कण्डिण] कापा द्रुमा (कुमा)।

कण्डिर वि [कण्डिर] कापनेवाला (गा ६५६,  
मुपा १५८; श्रा २७)।

कण्डिह वि [कण्डिह] कापनेवाला, अस्विर,  
'नियमकण्डिह परनवाहि कण्डिहनामपुं' (उप ६ टी)।

कण्डिह पुं [कण्डिह] १ यदुवंशीय राजा  
श्रन्वकण्डिह के एक पुत्र का नाम (श्रन्त ३)।

२ न पञ्जाब देश का एक नगर (ठा १०,  
उप ६४८ टी)। °पुर न [°पुर] नगर-  
विशेष (पत्र ८, १४३, उवा)।

कण्डि वि [कण्डि] १ कामुक, कामी। २ मुन्दर,  
मनोहर (पि २६५)।

कण्ड देवो कवा।

कण्डर पुं [कं] विज्ञान (दे २, १३)।

कण्डल पुन [कण्डल] १ कामरौ, ऊनी कण्डा  
(श्रात्ता, नग)। २ पुं स्वनाम-ख्यात एक  
कनीदर (राज)। ३ गौ के गने का चमड़ा,  
सान्ना, गन्धवन, लहर (विपा १, २)।

कण्डा स्त्री [कण्डा] यष्टि, लकड़ी, 'द्विदो  
तज्जणएणं, निनुडिच्च कववाएहिं वदो' (मुपा  
३६६)।

कण्डि ( स्त्री [कण्डि, °म्बी] १ दर्वी,  
कण्डि ) कण्डि। २ लीला-यष्टि, छद्दी, गोल  
ने हाथ में रखी जाती लकड़ी (उप पृ २३८)।

कण्डिया स्त्री [कण्डिया] पुस्तक का पृष्ठ,  
किताब का आवरण पृष्ठ (गय ६६)।

कण्डु पु [कण्डु] १ शङ्ख (पण्ड १, ४)। २ इत्त  
नाम का एक द्वीप (पत्र ४५, ३२)। ३  
पर्वत-विशेष (पत्र ४५, ३२)। ४ न. एक  
देव-विमान (सम २२)। °ग्रीव न [°ग्रीव]  
एक देव-विमान (सम २२)।

कण्डोय पुं [कण्डोज] देव-विशेष (पत्र २७,  
७, स ८०)।

कण्डोय वि [कण्डोज] कण्डोज देश में उन्वन्न  
(स ८०)।

कण्डार पु व. [कण्डार] इत्त नाम का एक  
प्रसिद्ध देश (हे २, ६८, पड)। °जम्म न  
[°जम्मन्] कुकुम, केत्तर (कुमा)। देखो  
कण्डार।

कण्डार पु व. [कण्डार] इत्त नाम का एक  
प्रसिद्ध देश (हे २, ६८, पड)। °जम्म न  
[°जम्मन्] कुकुम, केत्तर (कुमा)। देखो  
कण्डार।

कण्डार पु व. [कण्डार] इत्त नाम का एक  
प्रसिद्ध देश (हे २, ६८, पड)। °जम्म न  
[°जम्मन्] कुकुम, केत्तर (कुमा)। देखो  
कण्डार।

कण्डार पु व. [कण्डार] इत्त नाम का एक  
प्रसिद्ध देश (हे २, ६८, पड)। °जम्म न  
[°जम्मन्] कुकुम, केत्तर (कुमा)। देखो  
कण्डार।

कण्डार पु व. [कण्डार] इत्त नाम का एक  
प्रसिद्ध देश (हे २, ६८, पड)। °जम्म न  
[°जम्मन्] कुकुम, केत्तर (कुमा)। देखो  
कण्डार।

कण्डार पु व. [कण्डार] इत्त नाम का एक  
प्रसिद्ध देश (हे २, ६८, पड)। °जम्म न  
[°जम्मन्] कुकुम, केत्तर (कुमा)। देखो  
कण्डार।

कण्डार पु व. [कण्डार] इत्त नाम का एक  
प्रसिद्ध देश (हे २, ६८, पड)। °जम्म न  
[°जम्मन्] कुकुम, केत्तर (कुमा)। देखो  
कण्डार।

कण्डार पु व. [कण्डार] इत्त नाम का एक  
प्रसिद्ध देश (हे २, ६८, पड)। °जम्म न  
[°जम्मन्] कुकुम, केत्तर (कुमा)। देखो  
कण्डार।

कण्डार पु व. [कण्डार] इत्त नाम का एक  
प्रसिद्ध देश (हे २, ६८, पड)। °जम्म न  
[°जम्मन्] कुकुम, केत्तर (कुमा)। देखो  
कण्डार।

कण्डार पु व. [कण्डार] इत्त नाम का एक  
प्रसिद्ध देश (हे २, ६८, पड)। °जम्म न  
[°जम्मन्] कुकुम, केत्तर (कुमा)। देखो  
कण्डार।

कस न [कास्य] १ धानु-विशेष, कासा । २ वायु विशेष । ३ परिमाण विशेष । ४ जल पीने का पात्र, प्याला (हे १, २६, ७०) ।  
 °ताल न [°ताल] वायु-विशेष (जीव ३) ।  
 °पत्ती, °पाई स्त्री [°पात्री] कासा का बना हुआ पात्र-विशेष (कण, ठा ६) । °पाय न [°पात्र] काना का बना हुआ पाय (दस ६) ।  
 कसार पुं [दे] कसार, एक प्रकार की मिठाई, 'ता करेऊण कसार तालपुडसंजुय चेग विसमोयग गोमे उवरोमि एयाण' (न १८७) ।  
 कसारी स्त्री [दे] त्रीन्द्रिय क्षुद्र जन्तु की एक जाति (जी १८) ।  
 कमाल पु [कास्याल] वायु-विशेष (हे २, ६२, सुपा ५०) ।  
 कमाला स्त्री [कमताला, कास्यताला] वायु का एक प्रकार का निर्घोष, ताल (एदि) ।  
 कमालिया स्त्री [कास्यतालिना] एक प्रकार का वायु (मुपा २४२) ।  
 कसिअ पु [कास्यिक] १ कनेरा, कँसारी, कान्य-कार (हे १, ७०) । २ वायु विशेष (मुपा २४२) ।  
 कसिआ स्त्री [कसिका] १ ताल (गाया १, १७) । २ वायु-विशेष (आचा २) ।  
 ककागि पुं स्त्री [दे] मर्म स्थान, 'अरुस विज्जति ककागो से' (सूअ १, ५, २, १५) ।  
 ककुध } देखो कउह = ककुद (पि २०६, ककुभ } हे २, १७४) ।  
 ककुह देखो कउह = ककुद (ठा ५, १, गाया १, १७, विपा १, २) । ५ हरिदश का एक राजा (पउम २२, ६६) ।  
 ककुहा देखो कउहा (पह्) ।  
 ककु पुं [ककु] १ उद्वर्तन-द्रव्य, शरीर पर का मेल दूर करने के लिए लगाया जाता द्रव्य (सूअ १, ६, निचू १) । २ न पाप (भग १२, ५) । ३ माया, कपट (सम ७१) ।  
 °गरु न [°गुरुक] माया, कपट (परह १, २—पत्र २८) ।  
 ककु पुन [ककु] १ चन्दन आदि उद्वर्तन द्रव्य (दस ६, ६४) । २ प्रसूति रोग आदि में किया जाता क्षार-पातन । ३ लोघ आदि से

उद्वर्तन (पव २—गाया ११५) । °कुर्या स्त्री [°करका] माया, कपट (पव २) ।  
 ककु पु [कर्क] १ चक्रवर्ती का एक देव कृत प्रासाद (उत्त १३, १३) । २ राशि विशेष, कर्क राशि (धर्मवि ६६) ।  
 ककुध पु [कर्कन्धु] ग्रहाधिष्ठायक देव विशेष (ठा २, ३) ।  
 ककुधु स्त्री [कर्कन्धु] वैर का वृक्ष (पाअ) ।  
 ककुड पु [कर्कट] कर्कराशि (विचार १०६) ।  
 ककुड न [कर्कट] १ जलजन्तु विशेष, कुलीर (पाअ) । २ ककड़ी, फल-विशेष (पव ४) । ३ हृदय का एक प्रकार का वायु (भग १०, ३) ।  
 ककुडच्छ पु [कर्कटाश्र] ककड़ी, खीरा (कण) ।  
 ककुडिया } स्त्री [कर्कटिना, °टी] ककड़ी ककुडी } (खीरा) का गाल (उप ६६१) ।  
 ककुणा स्त्री [ककुना] १ पाप । २ माया (परह १, २) ।  
 ककुत्र पु [दे] उड बनाते समय की इधु-रस की एक अवस्था, इधु रस का विकार-विशेष (पिड २८३) ।  
 ककुत्र पु [कर्कर] १ ककर, पत्थर (विपा १, २, गउड, सुपा ५९७, प्रासू १६८) । २ वि कठिन, पथ्य (आचू ४) । ३ ककर आवाज वाला (उत्त ७) ।  
 ककुत्रणया स्त्री [कर्करणता] १ दोषोद्भावन, दोषोद्भावनाभित प्रलाप (ठा ३, ३—पत्र १४७) ।  
 ककुत्राइय न [कर्करायित] १ ककर की तरह आचरित । २ दोषोच्चारण, दोष-प्रकटन (आव ४) ।  
 ककुस वि [कर्कश] १ कठोर, पथ्य (पाअ, सुपा ५८, आरा ६४, पउम ३१, ६६) । २ प्रखर, चण्ड । ३ तीव्र, प्रगाढ (विपा १, १) । ४ अनिष्ट, हानि कारक (भग ६, ३३) । ५ निष्ठुर, निर्दय (उग) । ६ चवा-चवा कर कहा हुआ वचन (आचा २, ४, १) ।  
 ककुस } पुं [दे] दध्योदन, करस्व (दे ककुसार } २, ६४) ।  
 ककुसेण पुं [कर्कसेन] अतीत उत्सर्पणी-काल में उत्पन्न एक स्वनाम स्यात कुलकर पुरुष (राज) ।

ककालुआ स्त्री [कर्करुका] १ कूप्पाण्ड-वल्ली, कोहडा का गाल, 'ककालुआ गोळडलि-त्तवै' (मृच्छ ५६) ।  
 ककुिकड पु [दे] ककुलास, गिरगिट, गुजराती में 'काकेडो' (दे ०, ५) ।  
 ककुि पु [ककुिन्] भवप्य मे होनेवाला पाटलिपुत्र का एक राजा (ती) ।  
 ककुिय न [ककुिक] मास (सूअ १, ११) ।  
 ककुेअण पुन [कर्केतन] रत्न की एक जाति (कण, पउम ३, ७५) ।  
 ककुेअ पुं [कर्केरक] मणि-विशेष की एक जाति (मृच्छ २०२) ।  
 ककुेड न [कर्केट] शाक विशेष, ककरैल, ककुडा (राज) । देखो ककुेडय ।  
 ककुेडई स्त्री [कर्केटकी] ककोडे का वृक्ष ककरैल का गाल (पाण १—पत्र ३३) ।  
 ककुेडय न [कर्केटक] देखो ककुेड । २ पु अनुवेलन्वर-नामक एक नाग-राज । ३ उमका आवास पर्वत (भग ३, ६, इक) ।  
 ककुेड पु [ककुेड] १ वृक्ष-विशेष, शीतल-चीनी के वृक्ष का एक भेद (गउड, स ७१) । २ न फल-विशेष, जो सुगंधी होता है (परह २, ५) । देखो ककुेड ।  
 ककुेडो स्त्री [ककुेडो] वृक्ष-विशेष (कुप्र २४६) ।  
 ककुेड देखो ककुेड = ककु (उव, कण, सुर १, ८८, पउम ४४, १, पि ३१८, ४२०) ।  
 ककुेड वि [ककुेड] १ कला-प्राप्त । २ पुं कशा का केश (तदु ३६) ।  
 ककुेड देखो ककुेड (सम ४१, ठा १, १० वज्जा ८, उव) ।  
 ककुेड वि [दे] पीन, पुष्ट (दे २, ११, कण, आचा, भवि) ।  
 ककुेडगी स्त्री [दे] सखी, सहेली (दे २, १६) ।  
 ककुेड [दे] देखो ककुेड (पह्) ।  
 ककुेड देखो ककुेड = ककु (पाअ, गाया १, ८, सुर ११, २२१) ।  
 ककुेड पु [दे] १ अपामार्ग, चिरचिरा, लटजीरा । २ किलाट, दूध की मलाई (दे २, ५४) ।  
 ककुेड पु [दे] १ अपामार्ग, चिरचिरा, लटजीरा । २ किलाट, दूध की मलाई (दे २, २२) ।



कञ्च न [दे. कृत्प्र] कादं, काम (दि २, २, (पङ्.) ।

कञ्च (पे) देवो कञ्च (प्राप्त) ।

कञ्च न [काच] काच, शीशा, 'कञ्चमारिणक च सम आहरणे पञ्जोमदि' (कप्पु) ।

कञ्चत वि [कृत्यमान] पीडित किया जाता (सूत्र १, २, १) ।

कञ्चरा स्त्री [दे] १ कञ्चरा, कञ्चा खजूजा । २ कञ्चा को नूत्वाकर, तनकर और मसाला डालकर बनाया दृष्ट्या माय-विशेष, एक प्रकार का आचार, गुजराती में जिसको 'काचरी' कहते हैं, 'पुराणे कञ्चरा पप्यादा दिएरामेया' (भवि) ।

कञ्चवार पु [दे] कञ्चवार, कूडा (सूक्त ४४) । कञ्चाइणी स्त्री [कात्यायनी] देवी-विशेष, चण्डी (न २३७) ।

कञ्चायण पु [कात्यायन] १ स्वनाम-न्याय ऋषि-विशेष (मुञ्ज १०) । २ न कोशिक गोत्र की जात्या-रूप एक गोत्र । ३ पुंस्त्री उच्च गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३२०) ।

कञ्चायणी स्त्री [कात्यायनी] पार्वती, गौरी (पात्र) ।

कञ्चि अ [कञ्चिन्] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ प्रत्य । २ मडल । ३ अमिताप । ४ हर्ष (पि २७१-हे २, २१७, २१८) ।

कञ्चु (अप) ऊपर देखो (हे ४, ३२६) ।

कञ्चूर पु [कञ्चूर] वनस्पति-विशेष, कन्नूर, काली हलदी (था २०) ।

कञ्चोल पुन [कञ्चोलक] पाय-विशेष, कञ्चोलय प्याला (पठम १०२, १२०, भवि सुपा २०१) ।

कञ्चु पु [कञ्चु] १ काँच, कञ्चरी । २ वन जगल (भग ३, ६) । ३ तृण, घास । ४ शुष्क तृण । ५ बली, लता । ६ शुष्क काष्ठों वाला जगल । ७-राजा वगैरह का जनान-नाना । ८ हाथी को बाँधने की डोर । ९ पाण्डवों का दूत । १० ग्रह-भ्रमण । ११ कज्ञा, श्रेणी । १२ दार, दरवाजा । १३ वनस्पति-विशेष, गुग्गुलु । १४ विनीतक वृक्ष । १५ घर की भीत । १६ मर्षा का स्थान । १७ जल-प्राय देश (हे २, १७) ।

कञ्च पु व [कञ्च] १ स्वनाम-न्याय देश, जो आजकल भी 'कञ्च' नाम से प्रसिद्ध है (पठम ६८, ६९, दे २, १ टी) । २ जलप्राय देश, जल-महल देश (गाया १, १—पत्र, ३३, कुमा) । ३ कञ्चा, लंगोट (नुर २, १६) । ४ इडु वीरह की वाटिका (कुमा; आचा २, ३) । ५ महाविदेह वर्ष में स्थित एक विजय-प्रदेश (ठा २, ३) । ६ तट, किनारा, 'गोलाएईए कञ्च, चञ्चता राइयाइ पत्ताट' (गा १७१) । ७ नदी के जल से वेष्टित वन (भग) । ८ नगवान् रूपभेद का एक पुत्र (आवम) । ९ कञ्च-विजय का एक राजा । १० कञ्च-विजय का अधिष्ठापक देव (जं ४) । ११ पाण्डवर्ती प्रदेश । १२ राजा वगैरह के उद्यान के समीप का प्रदेश (उप १८६ टी) । १३ छन्द-विशेष, दोषक छंद का एक भेद (पिग) । १४ कूड न [कूट] १

माल्यवन्तनामक वक्षन्कार पर्वत का एक शिखर । २ कञ्च-विजय के विनाजक वेताटय पर्वत के दक्षिणोत्तर पाण्डवर्ती दो शिखर (ठा ६) । ३ चित्रकूट पर्वत का एक शिखर (ज ४) । ४ ह्रिय पु [ह्रियप] कञ्च देश का राजा (भवि) । ५ ह्रियड पु [ह्रियपति] कञ्च देश का राजा (भवि) ।

कञ्च पुन [कञ्च] १ नदी के पास की नीची जमीन । २ मूला आदि की वाढी (आचा २, ३, ३, १) ।

कञ्चकर पु [दे] काञ्चिआ, सन्धी वेचने-वाला । (लोक प्र० ४६४, २, ३१—सर्ग) ।

कञ्चगावई स्त्री [कञ्चगावती] महाविदेह वर्ष का एक विजय-प्रदेश (ठा २, ३) ।

कञ्चद्वी स्त्री [दे] कञ्चौटी, लंगोटी, कञ्चनी (रभा—दि) ।

कञ्चभ पुं [कञ्चभ] १ कूर्म, कछुआ (परह १, ६, गाया १ ?) २ राहु, ग्रह-विशेष (भग १२, ६) । ३ रिगिय न [रिगियत] गुरु-वन्दन का एक दोष, कछुए की तरह चलते हुए वन्दन करना (वृह ३, उमा) ।

कञ्चभाणिया स्त्री [दे] जन में होनेवाली वनस्पति-विशेष (सूत्र २, ३, १८) ।

कञ्चभी स्त्री [कञ्चभी] १ कञ्चप-स्त्री, कूर्मा । २ बाघ विशेष (परह २, ५) । ३

नारद की वीणा (गाया १, १७) । ४ पुस्तक-विशेष (ठा ४, २) ।

कञ्चर पुं [दे] पङ्क, धीच, कर्द (दे २, २) । कञ्चरी स्त्री [कञ्चरी] उच्च विशेष (परह १—पत्र ३२) ।

कञ्चव (अप) पु [कञ्च] स्वनाम-प्रसिद्ध देश-विशेष (भवि) ।

कञ्चव देखो कञ्चस (पठम ३८, ३३, दे १, १६७ (गडड) ।

कञ्चवी देखो कञ्चभी (वृह ३) ।

कञ्चह देखो कञ्चभ (पात्र) ।

कञ्च स्त्री [कञ्चा] १ विभाग, अंग (पठम १६, ७०) । २ उरो वन, हाथी के पेट पर बाँधने की रज्जु, 'उपानियकञ्च' (विपा १, २—पत्र २३, औप) । ३ काँच, वगन (भग ३, ६, ग्रामा) । ४ श्रेणी, पंक्ति, 'चमरन् ए अमुरिदस्स असुरकुमारणो दुमस्स पायत्ताणियाहिबम्मन्त कञ्चाओ परणत्ताओ' (ठा ७) । ५ कमर पर बाँधने का वस्त्र (गा ६८४) । ६ जनानवाला, अन्त पुर (ठा ७) । ७ संगम-कोटि । ८ स्वर्वा-स्थान । ९ घर की भीत । १० प्रकांड (हे २, १७) ।

कञ्चा स्त्री [कञ्चा] रटि-भेषवा, कमर का आभूषण (पात्र) । १ वई स्त्री [वती] देवी कञ्चगावई (ज ४) । २ वईकूड न [वती-कूट] महाविदेह वर्ष में स्थित ब्रह्मकूट पर्वत का एक शिखर (इक) ।

कञ्चादट्ट पुं [दे कञ्चादट्ट] रोग विशेष (सिदि ११७) ।

कञ्चु स्त्री [कञ्चु] १ बुजली, म्वाज, रोग-विशेष (प्रातू २८) । २ खाज की उत्पन्न करनेवाली औषधि, कपिकञ्चु (परह २, ५) । ३ ल, ४ वि [मन्] खाज रोग-वाला (राज, विपा, १, ७) ।

कञ्चुट्टिया स्त्री [दे. कञ्चुट्टिका] कञ्चौटी, लंगोटी (रभा) ।

कञ्चुरिअ वि [दे] १ ईर्ष्या, जिसकी ईर्ष्या की जाय वह । २ न ईर्ष्या (दि २, १६) ।

कञ्चुरिअ वि [कञ्चुरित] व्याप्त, खचित (कुम्मा ६ टी) ।

कञ्चुरी स्त्री [दे] कपिकञ्चु, केवाँच (दे २, १६) ।

कच्छुल पु [कच्छुल] गुल्म-विशेष (परण १—पत्र ३२) ।

कच्छुल पुं [कच्छुल] स्वनाम स्यात् एक नारद मुनि (शाया १, १६) ।

कच्छू देखो कच्छु (प्रासू ७२) ।

कच्छोटी स्त्री [दे] कच्छौटी, लंगोटी (रभा—टि) ।

कज्ज वि [कार्य] १ जो किया जाय वह । २ करने योग्य । ३ जो किया जा सके (हे २, २४) । ४ न प्रयोजन, उद्देश्य, 'न य माहेइ सकज्ज' (प्रासू २७, कप्प) । ५ कारण, हेतु (वव २) । ६ काम, काजः

'अग्रह परिचित्ज्जइ,

सहरिसकडुज्जएण हियएण ।

परिणामइ अन्नह च्चिय,

कज्जारभो विहिवसेण'

(सुर ४, १६) ।

°जाण वि [°ज्ञ] कार्य को जाननेवाला (उप २४८) । °सेण पुं [°सेन] अतीत उत्सर्पिणी-काल में उत्पन्न स्वनाम स्यात् एक कुलकर-पुरुष (मम १५०) ।

कज्जाथा (शौ) स्त्री [कन्यका] कन्या, कुमारी (प्राकृ ८७) ।

कज्जउड पु [दे] अनर्थ (दे २, १७) ।

कज्जमाण वि [क्रियमाण] जो किया जाता हो वह, 'कज्ज च कज्जमाण च आगमिस्स च पावय' (सूय १, ८) ।

कज्जल न [कज्जल] १ काजल, मसी । २ अज्जन, सुरमा (कुमा) । °पभा स्त्री [°प्रभा] सुदर्शना नामक जम्बू-वृक्ष की उत्तर दिशा में स्थित एक पुष्करिणी (जीव ३) ।

कज्जलइअ वि [कज्जलित] १ काजलवाला । २ स्वाम, कृष्ण (पात्र) ।

कज्जलग्गी स्त्री [कज्जलाङ्गी] कज्जल-गृह, दीप के ऊपर रखा जाता पात्र, जिसमें काजल इकट्ठा होता है, कजरौटी (अत, शाया १, १—पत्र ६) ।

कज्जला स्त्री [कज्जला] इस नाम की एक पुष्करिणी (इक) ।

कज्जलाव अक [वृद्ध] हूना, वृद्धना; 'आरसंतो समणा ! एय ते शावाए उदय

रत्तिणेण आसवइ, उवचवरि वा शावा कज्जलावेइ' (आचा २, ३, १, १६) । वकृ कज्जलावेमाण (आचा २, ३, १, १६) ।

कज्जलिअ देखो कज्जलइअ (से २, ३६, गउड) ।

कज्जव } पु [दे] १ विष्ठा, मैला । २ वृण कज्जवय } वगैरह का समूह, कूबा, कतवार (दे २, ११, उप १७६, ५६३, स २६४, दे ६, ५६, अणु) ।

कज्जिय वि [कार्यिक] कार्यार्थी, प्रयोजनार्थी (वव ३) ।

कज्जोवगा पुं [कार्योपग] अठासी महाग्रहो मे एक ग्रह का नाम (ठा २, ३—पत्र ७८) ।

कज्जमाल न [दे] सेवाल, एक प्रकार की घास, जो जलाशयो में लगती है (दे २, ८) ।

कटरि (अप) अ [कटरे] इन अर्थों का द्योतक अव्यय—१ आक्षयं, विस्मय, 'कटरि अणत्तह मुद्धइहे, जे मणु विच्चिन् माइ' (हे ४, ३५०) । २ प्रशसा, स्लाघा, 'कटरि भातु सुविसातु, कटरि मुहकमल पसन्निम' (धम्म ११ टी) ।

कटार (अप) न [दे] छुरी, क्षुरिका (हे ४, ४४५) ।

कट्ट सक [कृत्] काटना, छेदना । कट्टइ (भवि) । संकृ कट्टि, कट्टिवि, कट्टिअ (रभा, भवि, पिग) ।

कट्ट वि [कृत्] काटा हुआ, छिन्न (उप १८०) ।

कट्ट न [कट्ट] १ दुःख । २ वि कट्ट-कारक, कट्टवाई (पिग) ।

कट्टर पुंन [दे] कढ़ी में डाला हुआ घी का बहा, साद्य-विशेष (पिड ६३७) ।

कट्टर न [दे] खण्ड, अश, टुकड़ा, 'से जहा चित्तयकट्टरे इ वा वियाणपट्टे इ वा' (अनु) ।

कट्टराय न [दे] छुरी, शस्त्र-विशेष (स १४३) ।

कट्टारी स्त्री [दे] क्षुरिका, छुरी (दे २, ४) ।

कट्टिअ वि [कत्तित] काटा हुआ, छेदित (पिग) ।

कट्टु वि [कर्त्तु] कर्ता, करनेवाला (पड्) ।

कट्टु अ [कृत्वा] करके (शाया १, ५, कप्प भग) ।

कट्टोरग पु [दे] कटोरा, प्याला, पात्र-विशेष, 'तन्नो पासेहि करोडगा कट्टोरगा मंकुआ सिप्पाओ य ठविज्जति' (निचू १) ।

कट्ट न [कट्ट] १ दुःख, पीडा, व्यथा (कुमा) । २ पाप । ३ वि. कट्ट-दायक, पीडा-कारक (हे २, ३४, ६०) । °हर न [°गृह] कठ-घरा, काठ की बनी हुई चारदीवारी (सुर २, १८१) ।

कट्ट न [काट्ट] काठ, लकड़ी (कुमा, सुपा ३५४) । २ पु राजगृह नगर का निवासी एक स्वनाम-ख्यात श्रेष्ठी (आवम) । °कम्मत्त न [°कर्मन्त] लकड़ी का कारखाना (आचा २, २) । °करण न [°करण] श्यामक-नामक गृहस्थ के एक खेत का नाम (कप्प) । °कार पु [°कार] काठ-कर्म में जीविका चलानेवाला (अणु) । °कोलव पु [°कोलम्ब] वृक्ष की शाखा के नीचे झुक्ता हुआ अन्न-भाग (अनु) ।

°खाय पुं [°खाद्] कौट-विशेष, घुग (ठा ४) । °दल न [°दल] रहर की दाल (राज) । °पाडया स्त्री [°पाडुका] काठ का जूता, खड़ाऊँ (अनु ४) । °पुत्तलिया स्त्री [°पुत्तलिजा] कठपुतली (अणु) । °पेज्जा स्त्री [°पेया] १ मूँग वगैरह का क्वाय । २ धत से तली हुई तरङ्गुल की राव (उवा) ।

°महु न [°मधु] पुष्प-मकरन्द (कुमा) । °मूल न [°मूल] द्विदल धान्य, जिसका दो टुकड़ा समान होता है ऐसा चना, मूँग आदि अन्न (वृह १) । °हार पु [°हार] श्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष, क्षुद्र कौट-विशेष (जीव १) । °हारय पु [°हारक] कठहरा, लकड़हारा (सुपा ३८५) ।

कट्ट वि [कट्ट] विलिखित, चासा हुआ, 'खीर-दुमहेट्टपथकट्टोल्ला इधरो य मीसो य' (श्रीघ ३३६) ।

कट्टण न [कर्पण] आकर्षण, खींचाव (गउड) ।

कट्टहार पु [काट्टहार] कठहरा, लकड़हारा, काष्ठवाहक (कुप्र १०४) ।

कट्टा स्त्री [काट्टा] १ दिशा (सम ८८) । २ हृद, सीमा, 'कवडस्स अहो परा कट्टा' (आ १६) । ३ काल का एक परिमाण, अठारह निमेष (तट्टु) । ४ प्रकर्ष (सुज ६) ।

कट्टिअ पुं [दे] चपरानी, प्रतीहार (दे २, १५)।  
 कट्टिअ वि [फाट्टिन] काठ से मन्कन नीत वगैरह (आचा २, २)।  
 कट्टिण देखो कट्टिण (नाट—मालती ५६)।  
 कट्टेअ वि [फाट्टेअ] देखो कट्टिअ—काष्ठित (आचा २, २, १, ६)।  
 कट्टोल देखो कट्टु = कट्ट (पिंड १२)।  
 कड वि [दे] १ लीण, दुबल। २ मृत, विनष्ट (दे २, ५१)।  
 कड पृ [कट] १ गण्ड—न्यून, गाल (शाया १, १ पत्र ६५)। २ तृण, घान। ३ चटाई, श्रान्तरण-विशेष (ठा ४, ४ पत्र २७१)। ४ लकड़ी, यष्टि, तैमि च जुद्ध नयानिदु-कडपामाणदतनिवाएहि (वनु)। ५ वंश, वास (विपा १, ६, ठा ४, ८)। ६ तृण-विशेष (ठा ४, ४)। ७ छिन्ना हुआ काष्ठ (आचा २, २, १)। °च्छेज्ज न [°च्छेअ] बना विशेष (श्रीप, ज २)। °तड न [°तट] १ कटक वा एक भाग। २ गण्ड तल (शाया १, १)। °पूयणा स्त्री [°पूतना] व्यन्तरी-विशेष (विसे २५ ८६)।  
 कड वि [कृत] १ किया हुआ, बनाया हुआ, रचित (भा, परह २, ८, विपा १, १, कप्प, सुपा २६)। २ पुन युग विशेष, न्ययुग, (ठा ८, ३)। ३ चार की संख्या (सूत्र १, २)। °जुग न [°युग] सत्य-युग, उन्नति का समय, आदि युग, १७२०००० वर्षों का यह युग होता है (ठा ४, ३)। °जुम्म पुं [°युग्म] सम राशि-विशेष, चार से भाग देने पर जिसमें कुछ भी शेष न बचे ऐसी राशि (ठा ४, ३)। °जुम्मकडजुम्म पुं [°युग्मकृतयुग्म] राशि विशेष (भा ३४, १)। °जुम्मकल्लोअ [°युग्मकल्लोअ] राशि विशेष (भा ३४, १)। °जुम्मतेओग पुं [°युग्मओज] राशि-विशेष (भा ३४, १)। °जुम्मदावरजुम्म पु [°जुम्मदापर-युग्म] राशि-विशेष (भा ३४, १)। °जोगि वि [°योगिन्] १ कृत-क्रिय (निचू १)। २ गीतार्थ, ज्ञानी (श्रीव १३४ भा)। ३ तपस्वी (निचू १)। °वाड पुं [°वादिन्] श्रष्टि की नैसर्गिक न मानवर किसी की बनाई

हुई माननेवाला, जगत्कृतत्ववादी (सूत्र १, १, १) °ड पु [°दि] देखो °जोंग (भग, शाया १, १—पत्र ७८)। देखो कय = कृत।  
 कडअह पु [दे] दीवारिक, प्रतीहार (दे २, १५)।  
 कडअल्ली स्त्री [दे] कण्ठ, गला (दे २, १५)।  
 कडडअ पुं [दे] स्वपति, बडई (दे २, २२)।  
 कडडअ वि [कटफिन] बलय की तरह स्थित (मे १२, ४१)।  
 कडइह पु [दे] दीवारिक, प्रतीहार (दे २, १५)।  
 कडगर न [कडङ्गर] तुप, छिन्ना, भूना (सुपा १२६)।  
 कडंत न [दे] भूनी, कन्द विशेष। २ मुमन (दे २, ५६)।  
 कडतर न [दे] पुराना मूर्त आदि स्तंभकरण (दे २, १६)।  
 कडंतरिअ वि [दे] दारिन्, विदार्थि, विना-यिन् (दे २, २०)।  
 कडव पुं [कडम्ब] वाय विशेष (विसे ७८ टी)।  
 कडवा पृष्ठी [कडम्वा] वाय-विशेष (गय ८६)।  
 कडमुअ न [दे] १ कुम्भग्रीव नामक पात्र-विशेष। घडे का बरठ-भाग (दे २, २०)।  
 कडक देखो कडग (नाट—रत्ना ५८)।  
 कडकडा स्त्री [कडकडा] अनुकरण शब्द-विशेष, कड कड आवाज (स २५७, पि ५५८, नाट—मालती ५६)।  
 कडकडिअ वि [कडकडित्त] जिसने कड कड आवाज किया हो वह, जीर्ण (सुर ३, १६३)।  
 कडकडिअ वि [कडकडायित्त] कड-कड आवाज करनेवाला (सण)।  
 कडकिय न [कडकडित्त] कडकड आवाज (सिदि ६६२)।  
 कडकर पु [कटाच] कटाक्ष, तिरछी चितवन, भाव युक्त दृष्टि, आँख का संकेत (पाप्र, सुर १, ४३, सुपा ६)।  
 कडकरप क [कटाक्षय] कटाक्ष करना। कडकडइ (भवि)। संकू कडकखेवि (भवि)।

कडकरण न [कटाक्षण] कटाक्ष करना (भवि)।  
 कडकियअ वि [कटाक्षित] १ जिसपर कटाक्ष किया गया हो वह (रंभा)। २ न. कटाक्ष (भवि)।  
 कडग पुन [कटक] १ कंठा, वनय, हाथ का आभूषण विशेष (शाया १, १)। २ यवनिका, परदा, श्रमन्म संगगमण हीठी कडतए तं सव्व। 'निमुयमुवज्जभाएण' (उप १६६ टी)। ३ पर्वत का मूल भाग। ४ पर्वत का मध्य भाग। ५ पर्वत की सम भूमि। ६ पर्वत का एक भाग: 'गिरिन्दरकडगविसमदुग्गेणु' (पघ ८२, परह १, ३, शाया १, ४६ १८)। ७ शिविर, सेना खेने का न्यान (वृह २)। ८ पु. देग-विशेष (शाया १, १—पत्र ३३)। देखो कडय।  
 कडच्छु स्त्री [दे] कटौं, चमचौ, डोई (दे २, ७)।  
 कडण न [कडन] १ मार डालना, हिंसा करना। (कुमा)। २ नाश करना। ३ मर्दन। ४ पाप। ५ युद्ध। ६ विह्वलता, आतृलता (हे १, २१७)।  
 कडण न [कटन] १ घर की छत। २ घर पर छत डालना (गच्छ १)।  
 कडण न [कटन] चटाई आदि से घर का मस्कार, चटाई आदि से घर के पार्श्व भागों का किया जाता आच्छादन (आचा २, २, ३, १ टी, पत्र १३३)।  
 कडणा स्त्री [कटना] घर का श्रवयव विशेष (भा ८, ६)।  
 कडर्णा स्त्री [कटर्णा] मेखला, 'मुरगिरिखड-एणपरिद्विपचंदाइचाए सिस्मिणुहरंति' (सुपा ६१५)।  
 कडतला स्त्री [दे] नोहे का एक प्रकार का हथियार, जो एक वारवाला और वक्र होता है (दे २, १६)।  
 कडतरिअ वि [दे] देखो कडतरिअ (भवि)।  
 कडहरिअ वि [दे] १ छिन्न, काटा हुआ। २ न छिद्रता (पड)।  
 कडप्प पुं [दे कटप्र] १ चमूह, निक्क, कलाप (दे २, १३, पड, गच्छ, सुपा ६२, भवि, विक्र ६५)। २ वस्त्र का एक भाग (दे २, १३)।

कडमड पुन [दे] उडेग (ससि ४७) ।  
 कडय न [कटक] ऊख आदि की यष्टि (आचा २, १०, २) ।  
 कडय देखो कडग (नुर १, १६३, पात्र, गउड, महा; सुपा १६२, दे ५, ३३) । ६ लरकर, नैन्य (ठा ६) । १० पुं. काशी देश का एक राजा (महा) । 'वई स्त्री [वती] राजा कटक की एक कन्या (महा) ।  
 कडयड पुं [कडकड] कड-कड आवाज, 'कथइ खरपवहाणयकडम(? य)डमजवतदुम-गहण' (पत्रम ६४, ४४) ।  
 कडयडिय वि [दे] परावर्तित, फिराया हुआ, घुमया हुआ, 'न कुम्मह कडयडिय पिडि नं पविहव गिरिवर' (सुपा १७६) ।  
 कडसक्करा स्त्री [दे] वग शलाका, वंत्त की नलाई (विपा १, ६) ।  
 कडसार न [कटसार] मुनि का एक उपकरण, आसन; 'न वि लेइ जिणा पिछी (? छि) । नवि कुडी (? डि) कक्कलं च कडसार' (विचार १२८) ।  
 कडसी स्त्री [दे] श्मशान, ममान (दे २, ६) ।  
 कडहू पु [कटभू] वृक्ष-विशेष (वृह १) ।  
 कडा स्त्री [दे] कडी, मिकडी, जजीर की लटी, 'वियडकवाडकडाण खडक्कथो निमुण्णिओ ततो' (सुपा ४१४) ।  
 कडार न [दे] नारिकेल, नरियर (दे २, १०) ।  
 कडार पु [कडार] १ वणं-विशेष, तामडा वणं, भूरा रंग । २ वि कपिल वणंवाला, भूरा रंग का, मटमैला रंग का (पात्र; रवण ७७, सुपा ३३, ६२) ।  
 कडाली स्त्री [दे] कटालिका] घोडे के मुंह पर बावने का एक उपकरण (अनु ६) ।  
 कडाह पु [कटाह] १ कडाह, लोहे का पात्र, लोहे की बडी कडाही (अनु ६, नाट—मृच्छ ३) । २ वृक्ष विशेष (पत्रम १३, ७६) । ३ पांजर की हड्डी, शरीर का एक भ्रवयव (परण १) ।  
 कडाहपल्हरियअ न [दे] दोनो पार्श्वों का अपवर्तन, पार्श्वों को घुमाना-फिराना (दे २, २५) ।  
 कडि स्त्री [कटि] १ कमर, कटी (विपा १, २, अनु ६) । २ वृक्षादि का मध्य भाग

(ज १) । १ तड न [तट] १ कटी-तट । २ मध्य भाग (राय) । ३ पट्टय न [पट्टक] घोती, वस्त्र-विशेष (वृह ४) । ४ पत्त न [पत्र] १ सर्गादि वृक्ष की पत्ती । २ पतली कमर (अनु ५) । ५ यल न [तल] कटी-प्रदेश (भवि) । ६ न [टीय] देखो कडिह (दे) का दूसरा अर्थ । ७ वट्टी स्त्री [पट्टी] कमर का पट्टा, कमर-पट्टा (सुपा ३३१) । ८ वल्य न [वल्य] घोती, कमर में पहनने का कपटा (दे २, १७) । ९ सुत्त न [सूत्र] कमर का आभूषण, मेखला (मम १८३, कप्पु) । १० हत्थ पुं [हस्त] कमर पर रखा हुआ हाथ (दे २, १७) ।  
 कडि वि [कटिन्] चढाईवाला (अणु १४४) ।  
 कडिअ वि [कटित] १ कट—चढाई से आच्छादित (कप्पु) । २ कट से संस्कृत (आचा २, २, १) । ३ एक दूसरे में मिला हुआ, 'घणकडियकडिच्छाए' (श्रौप) ।  
 कडिअ वि [दे] प्रीणित, खुशी किया हुआ (पड्) ।  
 कडिखभ पु [दे] १ कमर पर रखा हुआ हाथ (पात्र, दे २, १७) । २ कमर में किया हुआ आघात (दे, २, १७) ।  
 कडिण पुन [दे] वृण विशेष (सूत्र २, २, ७) ।  
 कडित्त देखो कालत्त (राया १, १ टी—पत्र ६) ।  
 कडिभिह न [दे] शरीर के एक भाग में होनेवाला कुष्ठ विशेष । (वृह ३) ।  
 कडिह वि [दे] १ छिद्र रहित, निरिच्छद्र (दे २, ५२, पड्) । २ न कटी-वस्त्र, कमर में पहनने का वस्त्र, घोती वगैरह (दे २, ५२, पात्र, पड्, सुपा १५२, कप्पु, भवि, विसे २६००) । ३ वन, जंगल, अटवी; ससारभवकडिल्ले, संजोगवियोगसोगत्तगहणे । कुपहपण्णाणा तुम, सत्याहो नाह । उप्पत्तो' (पत्रम २, ४५, वव २, दे २, ५२) । ४ वि गहन, निविड, मान्द्र, 'मिल्लिभिल्लायकडिल्ल' (उप १०३१ टी, दे २, ५२, पड्) । ५ आगीर्वाद, आसीत । ६ पु दौवारिक, प्रतीहार । ७ विपन्न, शत्रु, दुश्मन (दे २, ५२, पड्) । ८ कटाह, लोहे का बडा पात्र (श्रौव ६२) । ९ उपकरण-विशेष (दस ६) ।

कडी देखो कडि (सुपा २२६) ।  
 कडु पु [कटुक] १ कडुआ, तिक्त, रस-कडुआ] विशेष (ठा १) । २ वि तीता, तिक्त रस-वाला (से १, ६१, कुमा) । ३ अग्निष्ट (परह २, ५) । ४ दाखण, भयकर (परह १, १) । ५ पत्थ, निप्टुर (नाट-रत्ना ६६) । ६ स्त्री वनस्पति-विशेष, कुटकी (हे २, १५५) ।  
 कडुअ (श्री) अ [कटुआ] करके (हे २, २७२) ।  
 कडुआल पु [दे] घटा, घट (दे २, ५७) । २ छोटी मछली (दे २, ५७, पात्र) ।  
 कडुडय वि [कटुकित] १ कडुआ किया हुआ । २ दूषित (गडड) ।  
 कडुड्या स्त्री [कटुकी] वल्ली-विशेष, कुटकी (परण १) ।  
 कडुच्छय पुं [दे] देखो कडुच्छु, कडुच्छु } 'धुवकडुच्छयहत्या' (सुपा ५१, कडुच्छुय } पात्र, निर ३, १, घम्म) ।  
 कडुयाविय वि [दे] १ प्रहृत, जिस पर प्रहार किया गया हो वह (उप पृ ६५) । २ व्यथित, पीडित, 'सा य (चोरवाडी) कुमारपहारकडुयाविया भग्गा परम्मुहा कया' (महा) । ३ हराया हुआ, परामृत । ४ भारी विपद् में फँसा हुआ (भवि) ।  
 कडुइद (श्री) वि [कटुकृत] कटुक किया हुआ (नाट) ।  
 कडेवर न [कलेवर] शरीर, देह (राय, हे ४, ३६५) ।  
 कड्ड सक [कृप] १ खीचना । २ चाम करना । ३ रेखा करना । ४ पटना । ५ उच्चारण करना । कड्डइ (हे ४, १८७) । वड्ड कड्डहत, कड्डमाण (गा ६८७, महा) । कवड्ड कड्डिज्जत, कड्डिज्जमाण (से ५, २६, ६, ३६, परह १, ३) । सड्ड कड्डिज्जण, कड्डेउ, कड्डिज्जु काड्डहय (महा), 'कड्डेतु, नमोक्कार' (पंचव), कड्डिड (पि ५७७) । कड्डेयज्ज (सुपा २३६) ।  
 कड्ड पु [कप] खींचाव, आकर्षण (उत्त १६) ।  
 कड्डण न [कपण] १ खींचाव, आकर्षण,

(मुपा २६०) । २ वि खींचनेवाला, आकर्षक (उप पृ २७७) ।

कड्डहणया स्त्री [कर्षणता] आकर्षण (उप पृ २७७)

कड्डाचिय वि [कर्षित] खींचवाया हुआ, बाहर निकलवाया हुआ (भवि) ।

कड्डिअ वि [दे] बाहर निकला हुआ, गुजराती में 'कादेखु', 'तो दासीहि मुण्ड व्व कड्डिअो कुड्डिअण वहि' (सिरी ६८६) ।

कड्डिअ वि [कृष्ट] १ आकृष्ट, खींचा हुआ (परह १, ३) । २ पठित, उच्चारित (स १८२) ।

कड्डोकरुह न [कर्पापरुष] खींचातान (उत्त १६) ।

कड्ड सक [कथ] १ कथ्य करना । २ उवाचना । ३ तपाना, गरम करना । कड्ड (हे ४, २२०) । वहु कड्डमाण (पि २०१) । कवहु 'राया जपइ एय सिचह रे रे इडततिल्लेण' (मुपा १२०), कड्डोअमाण (पि २२१) ।

कड्डकड्डकेन वि [कड्डकड्डायमान] कड्ड-कड्ड आवाज करता (परम २१, ४०) ।

कड्डण न [कथन] कथ्य करना, 'गणगुणेष पावइ खड्डणकट्टणोड मज्झि' (कुप्र २२३) ।

कड्डिअ न [दे] कडी (पिड ६२४) ।

कड्डिअ वि [कथित] १ उवाचना हुआ । २ नूव गरम किया हुआ, 'कड्डिअो खलु निवरसो अइकड्डो एव जाएइ' (श्रा २७, श्लो १४७, मुपा ४६६) ।

कड्डिआ स्त्री [दे] कडी, भोजन-विशेष (दे २, ६७) ।

कड्डिण वि [कठिन] १ कठिन, कर्षण, कठिणग १ कठोर, परह (परह १, ३, पात्र) । २ न कृण-विशेष (आचा २, ३, ३) । ३ परण, पत्ता (परह २, ४) ।

कड्डोर वि [कठोर] १ कठिन, परह, निष्ठुर । २ पु इस नाम का एक राजा (परम ३०, २३) ।

कण सक [कथण] शब्द करना, आवाज करना । कणइ (हे ४, २३६) । वहु कणत (सुर १०, २१८, वज्जा ६६) ।

कण सक [कण] आवाज करना । कणइ (हे ४, २३६) ।

कण पु [कण] १ कण, लेश, 'गुणवणमवि परिकहिउ न मकइ' (सावें ७६) । २ विकीर्ण दाना (कुमा) । ३ वनस्पति-विशेष, (परह १) । ४ पु एक म्नेच्छ देश (राज) । ५ ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठापक देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७७) । ६ तएडुन, श्रौदन (उत्त १२) । ७ कनिक (आचा २, १) । ८ विदु, 'विदुइअ कणअ' (पात्र) । ९ अ वि [वन] विन्दुवाला (पात्र) । [कुडग] पु [कुण्डक] श्रौदन की वनी हुई एक मद्य वस्तु, 'कणकुडग चड्डाए विदु मुजइ मूयरो' (उत्त १२) । १० पृथलिया स्त्री [पृथलिका] भोजन-विशेष, कणिक (आचा) की वनाई हुई एक न्याय वस्तु (आचा २, १) । ११ भक्ख पु [भक्ष] विशेषिक मत का प्रवर्तक एक ऋषि (राज) । १२ विच्छि स्त्री [विच्छि] निजा, भोज (मुपा २३४) । १३ वियाणग पु [वितानक] देखो कणग-वियाणग (मुज्ज २०, इक) । १४ संताणय पु [सतानक] देखो कणग सताणय (इक) । १५ इ पु [इ] विशेषिक मत का प्रवर्तक ऋषि (विसे २१६४) । १६ यणग वि [यणीर्ण] विन्दुवाला (पात्र) ।

कण पु [कण] शब्द, आवाज (उप पृ १०३) ।

कणइकेउ पु [कनिकेउ] इस नाम का एक राजा (दसे) ।

कणइपुर न [कनिकपुर] नगर-विशेष, जो महाराज जनक के भाई कनक की राजधानी थी (ती) ।

कणइर पु [कर्णिकार] कणोर, वनस्पति-विशेष (परह १—पत्र ३२) ।

कणइह पु [दे] शुक, तोता, मुगा, मुगा (दे २, २१, पड, पात्र) ।

कणई स्त्री [दे] नता, वस्ती (दे २, २४, पड, स ४१६, पात्र) ।

कणगर न [कनङ्गर] पापाण का एक प्रकार का हथियार (विपा १, ६) ।

कणकण पु [कणकण] कण-कण आवाज (आवम) ।

कणकणकण अक [दे] कण-कण आवाज करना । कणकणकणति (परम २६, ४३) । वहु कणकणकणन (परम ४३, ८६) ।

कणकणग पु [कनमनक] ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठापक देव विशेष (ठा २, ३) ।

कणकणिअ वि [कणकणिन] कण-कण आवाजवाला (कप्प) ।

कणगल न [दे] ज्ञान विशेष (मट्टि ६ टी) ।

कणग वि [कानक] सुवर्ण-रस पाया हुआ (वपटा) (आचा २, ४, १, ४) । १ पट्ट वि [पट्ट] मोने का पट्टावाला (आचा २, ४, १, ४) ।

कणग देना कण (कप्प) ।

कणग [दे] देलो कणय = (दे) (परह १, २) ।

कणग पु [कनक] १ ग्रह विशेष, ग्रहाधिष्ठापक देव विशेष (ठा २, ३—पत्र ७७) । २ रेखा-सहित ज्योति-पिण्ड, जो आकाश से गिरता है (श्लो ३१० ना, जी ६) । ३ विन्दु । ४ शलाका, बलाई (राज) । ५ घृतवर दीप का अधिपति देव (मुज १६) । ६ विल्व वृक्ष, वेन का पेड़ (उत्तनि ३) । ७ न. नुवर्ण, सोना (स ६४, जी ३) । ८ कन वि [कान्त] १ कनक की तरह चमकता (आचा २, ४, १) । २ मु. देव विशेष (दीव) । ३ कुट न [कूट] १ पर्वत-विशेष का एक शिखर (ज ४) । २ पु न्वर्ण मय शिखरवाला पर्वत (जीव ३) । ३ केउ पु [केतु] इस नाम का एक राजा (राया १, १८) । ४ गिरि पु [गिरि] १ मेरु पर्वत । २ स्वर्ण-प्रदुर पर्वत (श्रीप) । ३ उक्क पु [उक्क] इस नाम का एक राजा (पचा ५) । ४ पुर न [पुर] नगर विशेष (विपा २, ६) । ५ प्रभ पु [प्रभ] देव-विशेष (मुज १६) । ६ प्रभा स्त्री [प्रभा] १ देवी-विशेष । २ ज्ञान-वर्मनूत्र का एक अन्वयन (राया २, १) । ३ कुड्डिअ न [पुष्पित] जिसमें सोने के फूल लगाए गए हों ऐसा वस्त्र (निबू ७७) । ४ माला स्त्री [माला] १ एक विद्यावर की पुत्री (उत्त ६) । २ एक न्वनाम द्यात साक्वी (सुर १४, ६७) । ३ रहु पु [रहु] इस नाम का एक राजा (ठा ७, १०) । ४ लया स्त्री

[ल्ला] चमरेन्द्र के सोम नामक लोकपाल-  
देव की एक अग्रमहिषी (ठा ४, १—पत्र  
२०४) । °विद्याणग पुं [°वित्तानरु] ग्रह-  
विशेष, ग्रहाविद्यायक देव-विशेष (ठा २.  
३, पत्र ७७) । °सताणग पुं [°सतानरु]  
ग्रह-विशेष, ग्रहाविद्यायक देव-विशेष (ठा  
२, ३—पत्र ७७) । °वलि स्त्री [°वलि]  
१ नुवरण का एक आभूषण, नुवरण की  
मणियों ने बना आभूषण (अन २७) । °  
तप-विशेष एक प्रकार की तरश्चर्या (श्रीप) ।  
३ वृ द्वीप-विशेष । ४ समुद्र-विशेष (जीव ३) ।  
°वलिपविभक्ति स्त्री [°वलिप्रविभक्ति]  
नाट्य का एक प्रकार (राय) । °वलिभट्ट  
पु [°वलिभट्ट] कनकावलि द्वीप का एक  
अविद्यायक देव (जीव ३) । °वलिमहाभट्ट  
पुं [°वलिमहाभट्ट] कनकावलिचर नामक  
समुद्र का एक अविद्यायक देव (जीव ३) ।  
°वलिमहाचर पु [°वलिमहाचर] कनका-  
वलिचर नामक समुद्र का एक अविद्यायक देव  
(जीव ३) । °वलिचर पु [°वलिचर] १  
इस नाम का एक द्वीप । २ इस नाम का एक  
समुद्र । कनकावलिचर समुद्र का अविद्यायक  
देव-विशेष (जीव ३) । °वलिचरभट्ट पु  
[°वलिचरभट्ट] कनकावलिचर द्वीप का एक  
अविद्यायक देव (जीव ३) । °वलिचरमहाभट्ट  
पु [°वलिचरमहाभट्ट] कनकावलिचर नामक  
द्वीप का एक अविद्यायक देव (जीव ३) ।  
°वलिचरोभास पु [°वलिचरोभास] १  
इस नाम का एक द्वीप । २ इस नाम का एक  
समुद्र (जीव ३) । °वलिचरोभासभट्ट पु  
[°वलिचरोभासभट्ट] कनकावलिचरोभास-  
भट्ट द्वीप का एक अविद्यायक देव (जीव ३) ।  
°वलिचरोभासमहाभट्ट पुं [°वलिचरो-  
भासमहाभट्ट] कनकावलिचरोभास नाम  
द्वीप का एक अविद्यायक देव (जीव ३) । °वलि-  
चरोभासमहाचर पु [°वलिचरोभासम-  
हाचर] कनकावलिचरोभास-समुद्र का एक  
अविद्यायक देव (जीव ३) । °वलिचरोभास-  
चर पु [°वलिचरोभासचर] कनकावलि-  
चरोभास-समुद्र का एक अविद्यायक देव (जीव  
३) °वली स्त्री [°वली] देखो °वलि का

पहला और दूसरा अर्थ (पत्र २७१) । देखो  
कणय = कनक ।  
कणगमत्तरि स्त्री [कनगसत्तरि] एक प्राचीन  
जैनैतर शास्त्र (अणु ३६) ।  
कणगा स्त्री [कनका] १ नीम-नामक राज-  
सेन्द्र की एक अग्रमहिषी (ठा ४, २—पत्र  
७७) । २ चमरेन्द्र के सोम-नामक लोकपाल  
की एक अग्र-महिषी (ठा ४, २) । ३ 'खाया-  
धम्मकहा' सूत्र का एक अध्ययन (खाया २,  
१) । ४ क्षुद्र जन्तु-विशेष की एक जाति,  
चतुरिन्द्रिय जीव-विशेष (जीव १) ।  
कणगुत्तम पु [कनकोत्तम] इस नाम का  
एक देव (दाव) ।  
कणय पु [दे] १ फूलों को इकट्ठा करना,  
अवचय । २ वाण, शर 'अभिखेडयणयतो-  
मर—' (पट्टम ८, ८८, परह १, १, दे २,  
५६, पात्र) ।  
कणय पुन [कनरु] एक देव विमान (दिवेन्द्र  
१८८) ।  
कणय देखो कणगा = कनक (श्रीप ३१० ना;  
प्राप् १५६, हे १, २०८, उव; पात्र, महा,  
कुमा) । ८ पु राजा जनक के एक भाई का  
नाम (पट्टम २८, १३०) । ९ रावण का इस  
नाम का सुभट (पट्टम ५६, ३२) । १०  
धनूरा, वृक्ष-विशेष (सि ९, ४८) । ११ वृक्ष-  
विशेष (परण १—पत्र ३३) । १२ न  
छन्द-विशेष (पिपा) । °पत्रय पु [°पर्वत]  
देखो कणग-गिरि (सुपा ४३) । °मय वि  
[°मय] नुवरण का बना हुआ (सुपा २०) ।  
°मि न [°मि] विद्याचर के का एक नगर  
(द्व) । °ली स्त्री [°ली] घर का एक  
भाग (खाया १, १—पत्र १२) । °वली स्त्री  
[°वली] देखो कणगावली । ३ एक राज-  
पत्नी (पट्टम ७, ४५) ।  
कणयटी स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष, पाटरी, पाटल  
(दे २, ५८) ।  
कणविद्याणय पु [कणवित्तानरु] देखो  
कणगविद्याणग (मुज २०) ।  
कणवी स्त्री [दे] कन्या (वत्ता १०८) ।  
कणवीर पु [कणवीर] १ वृक्ष विशेष, कनेर  
(हे १, २५३, सुपा १५१) । २ न कणेर  
का फूल (परह १, ३) ।

कणि पुस्त्री [दे] स्फुरण, स्फूर्ति, 'कणी  
फुरण' (पात्र) ।  
कणिआर देखो कणिआर (कुमा; प्राप्र, हे  
२, ६५) ।  
कणिआरिअ वि [दे] १ कानी आँख से जो  
देखा गया हो वह । २ न कानी नजर से  
देखना (दे २, २४) ।  
कणिमा स्त्री [कणिमा] कनेक, रोटी के लिए  
पानी से मिजाया हुआ आटा (दे १, ३७) ।  
कणिक्क वि [कणिक्क] मत्स्य विशेष (जीव  
१) ।  
कणिक्का देखो कणिक्का (था १४) ।  
कणिट्ट वि [कणिट्ट] १ छोटा, लघु (पट्टम  
१५, १२, हे २, १७२) । २ निट्ट, जघन्य  
(रंभा) ।  
कणिय न [कणित] १ आत्त-स्वर । २  
आवाज, ध्वनि (प्राव ४) ।  
कणिय } देखो कणिक्का (कप्प) । २  
कणिया } कणिका, चावल का टुकड़ा  
(आचा २, १, ८) । °कुडय देखो कण-कुडग  
(स ४८७) ।  
कणिया स्त्री [कणिता] वीणा-विशेष (जीव  
३) ।  
कणिर वि [कणित्] आवाज करनेवाला (उप  
पु १०३, पात्र) ।  
कणिल्ल न [कणिल्ल] नक्षत्र-विशेष का गोत्र  
(इक) ।  
कणिट्टिका स्त्री [कणिट्टिका] छोटी श्रगुली  
(अगविला, अय्या० ६ ग्लो० १७५३) ।  
कणिस न [कणिस] सत्य-शीर्षक, धान्य का  
अग्र भाग (दे २, ६) ।  
कणिम न [दे] किगाव, मन्व-शूव, सत्य का  
तीक्ष्ण अग्र भाग (दे २, ६, भवि) ।  
कणीअ } वि [कनीयस्] छोटा, लघु,  
कणीअस } 'तस्य भाया कणीमतो पह नाम'  
(वसु, वेणी १७६, कप्प, अत १४) ।  
कणीणिगा स्त्री [कणीनिका] १ आँख की  
तारा । २ छोटी उगली (गज) ।  
कणीर देखो कणेर (चड) ।  
कणुय न [कणुक] त्वग् वगैरह का अवयव  
(आचा २, १, ८) ।  
कणूया देखो कणिया = कणिका (कस) ।

कणोडिआ स्त्री [दे] गुब्जा, घुँघची (दे २, २१)।

कणेर देखो कणिगआर (हे १, १६८, पि २५८)।

कणेरु स्त्री [करेणु] हस्तिनी ह्यिनी कणेरुया (हे २, ११६, कृमा, राया १, १—पत्र ६४)।

कणोवअ न [दे] गरम किया हुआ जल, तेन वगैरह (दे २ १६)।

कणग पु [कन्या] राणि-विशेष, कन्या राशि, 'बुहो य करणम्मि वट्टए उच्चो' (पठम १७, ८१)।

कणण पु [कण्य] इस नामका एक परिव्राजक, ऋषि विशेष (श्रीप अग्नि २६२)।

कणग पु [कर्ण] १ कोटि भाग, अग्राश (सुज १, १)। २ एक म्लेच्छ-जाति (मृच्छ १५२)।

कणण पुन [कर्ण] १ कान, श्रवण, श्रोत्र, 'करणाई' (पि ५८, प्रामू २)। १ पु अङ्ग

देश का इन नाम का एक राजा, युविष्ठिर का बड़ा भाई (राया १, १६)। ३ काना,

वन्दु के छोर का एक अश (अग० सूत ५१, २२)। ४ ङर, ०ऊर न [०पूर] कान का

आभूषण (प्राप्र, हेका ४५)। ५ गइ स्त्री [०गति] मेरु-मन्त्रकी एक डारी (जो १०)।

०जयसिंहदेव पुं [०जयसिंहदेव] उजरात देश का बारहवीं शताब्दी का एक यशस्वी

राजा (ती)। ०दच पु [०देव] विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का मौराष्ट्र-देशीय एक राजा

(ती)। ०धार पु [०धार] नाविक, निर्यामक (राया १, ८)। ०पाउरण पु [०प्रावरण]

१ इस नाम का एक अन्तर्द्वीप। २ उस अन्तर्द्वीप का निवासी (परण १)। ०पावरण देखो ०पाउरण (इक)। ०पीठ न [०पीठ]

कान का एक प्रकार का आभूषण (ठा ६)। ०पूर देखो ०ऊर (राया १, ८)। ०रवा स्त्री [०रवा]

नदी-विशेष (पठम ४०, १३)। ०वालिया स्त्री [०वालिका] कान के ऊपर भाग में पहना जाता एक प्रकार का आभूषण

(श्रीप)। ०वेधणग न [०वेधनक] उत्सव-विशेष, कर्णवेधनमव (श्रीप)। ०सक्कुली स्त्री [०शक्कुली]

१ कान का छिद्र। २ कान की नवाई (राया १, ८)। ०सोहण न

[०जोधन] कान का मूल निकालने का एक उपकरण (निबू ४)। ०हार पु [०धार] देखो ०धार (अच्छु २४, ८ ३२७)। देखो कन्न।

कणणआर देखो कणिगआर (प्राकृ ३०)। कणणउज्ज पु [कान्यकुटज] १ देश-विशेष, दोआब, गङ्गा और यमुना नदी के बीच का देश। २ न उस देश का प्रधान नगर, जिसको

आजकल 'कन्नौज' कहते हैं (ती, कपू)। कणणवाल न [दे] कान का आभूषण—

कुण्डल वगैरह (दे २, २३)। कणणगा देखो कन्नगा (ध्रव ८)।

कणणन्धुरी स्त्री [दे] गृह-गोवा, छिपकली (दे २, १६)। कणणडय (अप) देखो कणग (हे ४, ४३२, ४३३)।

कणणल (अप) वि [कर्णाट] १ देश विशेष, कर्णाटक। २ वि उम देश का निवासी (पिग)।

कणणलोचन पुन [कर्णलोचन] देखो कणिगलायण (सुज १०, १६)।

कणणल पुन [कर्णल] ऊपर देखो (सुज १०, १६ टी)। कणणस वि [कन्यस] अयम, जयन्त (उत्त ५)।

कणणस्सरिय वि [दे] १ कानी नजर से देखा हुआ। २ न कानी नजर से देखना (दे २, २४)।

कणणा स्त्री [कन्या] १ ज्योतिष शास्त्र-प्रसिद्ध एक राशि। २ कन्या, लडकी, कुमारी (कपू, पि २८२)। ०चोलय न [०चोलक] धान्य-विशेष, जवनाल (एदि)। ०णय न [०नय]

चोल देश का एक प्रधान नगर, 'चोलदेशावयंसे करणाणयनयं' (ती)। ०लिय न [०लीक] कन्या के विषय में बोला जाता झूठ (परह १, ३)।

कणणाआस न [दे] कान का आभूषण—कुण्डल वगैरह (दे २, २३)।

कणणाइधण न [दे] कान का आभूषण—कुण्डल वगैरह (दे २, २३)।

कणणाह पुं [कर्णाट] १ देश-विशेष, जो आजकल 'कर्णाटक' नाम से प्रसिद्ध है। २

वि उस देश में उत्पन्न, वहा का निवासी (कपू)।

कणगास पु [दे] पर्यन्त, अन्त-भाग (दे २, १८)।

कणिग पु [कर्णि] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६)।

कणिगआ स्त्री [कर्णिगा] १ पद्म-उदर, कमल का बीज-कोप (दे ६, १४०)। २ कोण, अन्न (अणु, ठा ८)। ३ शालि वगैरह के बीज का मुख-मूल, तुप-मुख (ठा ८)।

कणिगआर पु [कर्णिगार] १ वृत्र विशेष, कनेर का गाछ (कुमा, हे २, २५, प्राप्र)। २ गोशालक का एक भक्त (अग १५, १०)। ३ न कनेर का फूल (राया १, ६)।

कणिगलायण न [कर्णिलायण] नक्षत्र विशेष का एक गोत्र (इक)।

कणणारह देखो कन्नौरह। कणणुपल न [कर्णात्पल] कान का आभूषण-विशेष (कपू)।

कणणेर देखो कणिगआर (हे १, १६८)। कणणोच्छडिआ स्त्री [दे] दूसरे की बात

गुप्तगुप्त सुननेवाली स्त्री (दे २, २२)। कणणोड्ड स्त्री [दे] स्त्री को पहनने का

कणणोड्डिआ } वस्त्र विशेष, नीरङ्गी (दे २, २० टी)। कणणोड्ती [दे] देखो कणणोच्छडिआ (दे २, २०)।

कणणोड्डिआ स्त्री [दे] स्त्री को पहनने का कणणोड्डिआ } वस्त्र विशेष, नीरङ्गी (दे २, २० टी)।

कणणोड्ती [दे] देखो कणणोच्छडिआ (दे २, २०)। कणणोड्डिआ स्त्री [दे] स्त्री को पहनने का

कणणोड्डिआ } वस्त्र विशेष, नीरङ्गी (दे २, २० टी)। कणणोड्ती [दे] देखो कणणोच्छडिआ (दे २, २०)।

कणणोड्डिआ स्त्री [दे] स्त्री को पहनने का कणणोड्डिआ } वस्त्र विशेष, नीरङ्गी (दे २, २० टी)।

कणणोड्डिआ स्त्री [दे] स्त्री को पहनने का कणणोड्डिआ } वस्त्र विशेष, नीरङ्गी (दे २, २० टी)।

कणणोड्डिआ स्त्री [दे] स्त्री को पहनने का कणणोड्डिआ } वस्त्र विशेष, नीरङ्गी (दे २, २० टी)।

कणणोड्डिआ स्त्री [दे] स्त्री को पहनने का कणणोड्डिआ } वस्त्र विशेष, नीरङ्गी (दे २, २० टी)।

कणणोड्डिआ स्त्री [दे] स्त्री को पहनने का कणणोड्डिआ } वस्त्र विशेष, नीरङ्गी (दे २, २० टी)।

कणणोड्डिआ स्त्री [दे] स्त्री को पहनने का कणणोड्डिआ } वस्त्र विशेष, नीरङ्गी (दे २, २० टी)।

कणणोड्डिआ स्त्री [दे] स्त्री को पहनने का कणणोड्डिआ } वस्त्र विशेष, नीरङ्गी (दे २, २० टी)।

कणणोड्डिआ स्त्री [दे] स्त्री को पहनने का कणणोड्डिआ } वस्त्र विशेष, नीरङ्गी (दे २, २० टी)।

करनेवाला एक उपासक (सुपा ५६२) । ४ विक्रम की तृतीय शताब्दी का एक प्रसिद्ध जैनाचार्य, दिगम्बर जैन मत के प्रवर्तक शिवभूति मुनि के गुरु (विसे २५५३) । ५ काला वरुण (श्राचा) । ६ इस नाम का एक परिव्राजक, तापस (श्रौष) । ७ वि ज्याम वरुण, काला रगवाला (कुमा) । ८ ओराल पु [ओराल] वनस्पति-विशेष (परएण १—पत्र ३४) । ९ कन्द पु [कन्द] वनस्पति-विशेष, कन्द-विशेष (परएण १—पत्र ३६) । १० कण्ठिग-यार पु [कण्ठिगार] काली कनेर का गच्छ (जीव ३) । ११ कुमार पु [कुमार] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (निर १, ४) । १२ गोमी स्त्री [गोमिन्] काला शृगाल, 'कण्हगोमी जहा चिना, कटग वा विचित्तय' (वय ६) । १३ णाम न [नामन्] कर्म-विशेष, जिनके उदय में जीव का शरीर काला होता है (राज) । १४ पक्खिय वि [पाक्षिक] १ क्रूर कर्म करनेवाला (सूत्र २, २) । २ बहुत काल तक सवार में भ्रमण करनेवाला (जीव) (ठा १, १) । १५ वधुजीव पु [वधुजीव] वृक्ष विशेष, श्याम पुष्पवाला दुपहरिया (जीव २) । १६ भूम, भाम पु [भूम] काली जमीन (श्रावम, विने १४५८) । १७ राइ, राई स्त्री [राजि, जी] १ काली रेखा (भग ६, ५, ठा ८) । २ एक इन्द्राणी, ईशानेन्द्र की एक भ्रम-महिषी (ठा ८, जीव ४) । ३ 'माता वमं कथा' सून का एक भव्ययन—परिच्छेद (णया २, १) । ४ रिसि पु [रिषि] इस नाम का एक ऋषि, जिसका जन्म शखावती नगरी में हुआ था (ती) । ५ लेम, लेस्स वि [लेश्य] कृष्ण-नेत्र्यावाला (भग) । ६ लेसा, लेस्सा स्त्री [लेश्या] जीव का अति निकट मन—परिणाम, जघन्य-वृत्ति (भग, सम ११, ठा १, १) । ७ वडिसय, वडैमय न [वडिसक] एक देव-विमान (राज, णया २, १) । ८ वडि, वड्डी स्त्री [वडि, ड्डी] धल्ली-विशेष, नागदमनी लता (परएण १) । ९ सप पु [सर्प] १ काला साँप (जीव ३) । २ राहु (सुत्र २०) । देखो कण्ह ।

कण्हई अ [कुत्तश्चिन्] किसी में (सूत्र १, २, ३, ६) । देखो कण्हइ ।

कण्ह स्त्री [कृष्णा] १ एक इन्द्राणी, ईशा-नेन्द्र की एक भ्रम-महिषी (ठा ८—पत्र ४२६) । २ एक अन्तकृत स्त्री (अत २५) । ३ द्रौपदी, पाण्डवों की स्त्री (राज) । ४ राजा श्रेणिक की एक रानी (निर १, ४) । ५ ब्रह्म देश की एक नदी (श्रावम) ।

कण्हइ अ [कचिन्] कचित्त, कहीं भी (सूत्र १, १) । २ कहीं से ? (उत्त २) ।

कण्हई देखो कण्हइ (सूत्र २, २, २१) । कतवार पु [दे] कतवार, कूडा (दे २, ११) । कति देखो कड = कति (पि ४३३, भग) । कतु देखो कड = कतु (कथ्य) ।

कत्त सक [कृन्] काटना, छेदना, कतरना । कत्ताहि (परह १, १) । वकृ कत्तत (श्रोघ ४६८) ।

कत्त सक [कृन्] काटना, चरखे से सूत बनाना । वकृ कत्तत (पिड ५७४) ।

कत्त वि [कृत्त] निर्मित (संदि ४०) ।

कत्त न [दे] कलन, स्त्री (पड्) ।

कत्तण न [कर्त्तन] काटना (पिड ६०२) ।

कत्तण न [कर्त्तन] १ कतरना, काटना (सम १२५, उप पृ २) । २ वि काटनेवाला, कतरनेवाला (सुर १, ७२) ।

कत्तणया स्त्री [कर्त्तनता] लवन, कतराई (सुर १, ७२) ।

कत्तर पु [दे] कतवार, कूडा, 'इत्तो य कविलमूसयकत्तरवहुकारितित्ठपभिर्दिहि, केसव-किसी विण्ढा' (सुपा २३७) ।

कत्तरिअ वि [कृत्त, कत्तिन] कतरा हुआ, काटा हुआ, सून (सुपा ५४६) ।

कत्तरी स्त्री [कर्त्तरी] कतरनी, कैंची (कथ्य) ।

कत्तवीरिअ पु [कात्तेवीर्ये] नृप विशेष (सम १५३, प्रति ३६) ।

कत्तव्य वि [कर्त्तव्य] १ करने योग्य (स १७२) । २ न कार्य, काज, काम (श्रा ६) ।

कत्ता स्त्री [दे] अन्विका-शूत की कपाड़िका, कौडी (दे २, १) ।

कत्ति स्त्री [कृत्ति] चर्म, चमड़ा (स ४३६, गडड, णया १, ८) ।

कत्ति वि [कर्त्त] करनेवाला, 'किरिया ण कत्तिरहिया' (धर्मस १४५) ।

कत्तिकेअ पु [कत्तिकेय] महादेव का एक पुत्र, पडानन (दे ३, ५) ।

कत्तिगी स्त्री [कत्तिकी] कत्तिक मास की पूर्णिमा (पडम ८६, ३०, इक) ।

कत्तिम वि [कृत्तिम] कृत्तिम, वनावटी (सुपा ८३, ज २) ।

कत्तिय पु [कत्तिक] १ कत्तिक मास (सम ६५) । २ इस नाम का एक श्रेणी (निर १, ३) । ३ भरत क्षेत्र के एक भावी तीर्थकर के पूर्व भव का नाम (सम १५४) ।

कत्तिया स्त्री [कत्तिका] नक्षत्र-विशेष (सम ११, इर) ।

कत्तिया स्त्री [कत्तिका] कतरनी, कैंची (सुपा २६०) ।

कत्तिया स्त्री [कत्तिकी] १ कत्तिक मास की पूर्णिमा (सम ६६) । २ कत्तिक मास की अमावास्या (चंद १०) ।

कत्तिवविय वि [दे] कृत्तिम, दिखाऊ, 'कत्ति-ववियाहि उवहिण्णहारणहि' (सूत्रनि १, ४) ।

कत्तु वि [कर्त्त] करनेवाला, 'कत्ता भुता य पुत्तपावाण' (श्रा ६) ।

कत्तो अ [कृन्] कहां से, किमने ? (पडम ४७, ८, कुमा) । २ अय वि [त्य] कहां से उत्पन्न ? (विसे १०१६) ।

कत्थ सक [कथ्य] श्लाघा करना, प्रशंसना । कथइ (हे १, १८७) ।

कत्थ अ [कृन्] कहां से ? (पड्) ।

कत्थ अ [कृ, कुत्त] कहां ? (पड्, कुमा, प्रासू १२३) । ३ अ [चित्त] कहीं, किसी जगह (श्राचा, कथ्य, हे २, १७४) ।

कत्थ वि [कथ्य] १ कहने योग्य, कथनीय । २ न काव्य का एक भेद (ठा ४, ४—पत्र २८७) । ३ वनस्पति विशेष (राज) ।

कत्थत देखो कह = कथ्य ।

कत्थभारणा स्त्री [कत्तभानी] पानी में होने-वाली वनस्पति-विशेष (परएण १—पत्र ३४) ।

कत्थूरिया स्त्री [कत्तूरी] मृग-भेद, हरिण-स्तूरी की नाम में होनेवाली सुगन्धित वस्तु (सुपा १४७, स २३६, कथ्य) ।

कथ वि [दे] १ उतरत, मृत । २ क्षीण, दुर्बल (पड्) ।



कद (ना) देखो कड = कृत (प्राक् १०३)  
 कदग देखो कयग (हम्मौर ३४)।  
 कदण देखो कडग = कदन (कुमा)।  
 कदली देखो कयली (परण १—पत्र ३२)।  
 कदु देखो कड = क्तु (प्राक् १०)।  
 कदुअ (श्री) अ [कृत्वा] कके (प्राक् ८८)।  
 कदुडया स्त्री [दे] वल्नी-विशेष, कद्दू,  
 लोकी (परण १—पत्र ३३)।  
 कदुशण (ना) वि [कदुष्ण] थोडा गरम  
 (प्राक् १०२)।  
 कदम पुन [कर्म] कीचड, बौदो (कुप्र  
 ६६)। °ल वि [°ल] कीचडवाला (सूअनि  
 १६१)।  
 कदम } पुं [कर्म] ? कदो, कीच (परह  
 कदमरा } १ ?)। २ देव विशेष, एक नाग-  
 राज (नग ६, ३)।  
 कदमिअ वि [कर्मित] पङ्क-युक्त, कीचड  
 वाला (ने ७, २०, गडड)।  
 कदमिअ पु [दे] महिप, मैना (दे २, १५)।  
 कद देखो कण = कर्ण (नुर १ २, नुर २,  
 १७१, मुपा ५०४, धम्म १२ टी, ठा ४,  
 २, मुपा ६५, पात्र)। °यस पु [°वितस]  
 कान का प्राभूपण (पात्र)।  
 कद देखो कण (कुलक)। °एव देखो कण-  
 देव (कुप्र ४)। °वट्टि, °वट्टि स्त्री [°वृत्ति]  
 किनारा, अग्र नाग (कुप्र ३३१, ३३४,  
 विचार ३२७, पत्र १२५)।  
 कदउज्ज देखो कणउज्ज (कुमा)।  
 कदगा स्त्री [कन्यता] कन्या, लहरी,  
 कुमारी (नु ३, १२२, महा)।  
 कदस वि [कनीयस्] कनिष्ठ, जघन्य,  
 'कससमर्पित्तमज्झा' (पत्र १५७)।  
 कदा देखो कणा (नुर २, १५४ पात्र)।  
 कदाड देखो कणाड (नवि)।  
 कदारिय वि [दे] विनूषित, अलंकृत, 'आरहं'  
 कदारिय गहट्टु' (नवि)।  
 कदरीरह पु [कर्गारथ] एक प्रकार की शिविका,  
 वनाथ का एक प्रकार का बाहन (शाया  
 १, ३)।  
 कन्नुट्ट (अप) पु [कर्ण] कान, अबणेन्द्रिय  
 (कुमा)।  
 कन्नेरने देखो कण्णआर (कुमा)।

कन्नेली [दे] देखो कण्णेही (पात्र)।  
 कन्ह देखो कण्ह (मुपा ५६६, कप्प)। °मह  
 न [°सह] जैन साधुओं के एक कुल का  
 नाम (कप्प)।  
 कपय देखो कमन्थ (प्राक् १२)।  
 कपिजल पु [कपिजल] पक्षि-विशेष—१  
 चातक। २ गौरा पत्नी (परह १, १)।  
 कपूर देखो कप्पूर (आ २७)।  
 कप्प अक [कृप्] ? समर्थ होना। २  
 कल्पना, काम से ग्राना। ३ नक, काटना,  
 छेदना। कप्पइ, कप्पए (कप्प महा, पिग)।  
 कर्म कप्पिजइ (हे ४, ३५७)। कृ काप-  
 णिज्ज (आव ६)। प्रयो कप्पावेज्ज (निवृ  
 १७)। वक कप्पायत (निवृ १७)।  
 कप्प सक [कल्पय्] ? करना, बनाना।  
 २ वर्णन करना। ३ कल्पना करना। वक  
 कप्पेमाण (विपा १, १)। सट्ट कप्पेउण  
 (पत्र १)।  
 कप्प वि [कल्पय्] ग्रहण-योग्य (पत्रा १२)।  
 कप्प पु [कल्प] ? प्रदालन (पिड २६६;  
 २७१, ३०५, गच्छ २, ३०)। २ आचार,  
 व्यवहार (वव १, पत्र ६६)। ३ दशाशु-  
 त्तकव सूत्र। ४ कल्प-सूत्र। ५ व्यवहार-  
 सूत्र (वव १)। ६ वि उचित (पंचा १८,  
 ३०)। °काल पुं [°काल] प्रभूत काल  
 (मून १, १, ३, १६)। °घर वि [°घर]  
 कल्प तथा व्यवहार सूत्र का जानकार  
 (वव १)।  
 कप्प पुं [कल्प] ? वात-विशेष, देवों के दो  
 हजार युग परिमित समय, 'वम्मारा कप्पिआए  
 नाहि कप्पतरेनु एिक्खेस' (अच्छु १८,  
 कुमा)। २ शास्त्रोक्त विवि अनुष्ठान (ठा  
 ६)। ३ शान्त-विशेष (विने १०७५, मुपा  
 ३२४) ४ कम्बल-प्रभुत्व उपकरण (श्रीव  
 ४०)। ५ देवों का स्थान, वारह देवलोक  
 (नग ५, ४, ठा २, १०)। ६ वारह देवलोक  
 निवासी देव, वैमानिक देव (सम २)। ७  
 वृक्ष-विशेष, मनोवाञ्छित फल को देनेवाला  
 वृक्ष, कल्प-वृक्ष (कुमा)। ८ शान्त-विशेष,  
 'अमित्तेउयकप्पतोमरविहत्था' (पटम ६,  
 ७३)। ९ अविवास, स्थान (वृह १)। १०  
 राजा नन्द का एक मन्त्री (गज)। ११ वि

समर्थ, शक्तिमान् (शाया १, १३)। १२  
 सदृश तुल्य, 'केवलकप्प' (आवम, परह २,  
 २)। °ट्टु पुं-[°स्थ] बालक, बच्चा (वव  
 ७)। °ट्टिइ स्त्री [°स्थिति] साधुओं का  
 शान्तोक्त अनुष्ठान (वृह ६)। °ट्टिया स्त्री  
 [°स्थिता] ? लहकी, बालिका (वव ४)।  
 २ तरण स्त्री (वृह १)। °ट्टी स्त्री [°स्थ्या]  
 ? बालिका, लहकी (वव ६)। २ कुनाङ्गना,  
 कुल-वधु (वव ३)। °तरु पुं [°तर] कल्प-  
 वृक्ष (प्राप् १६८, हे २, ७६)। °स्त्री स्त्री  
 [°स्त्री] देवी, देव-स्त्री (ठा ३)। °ट्टुम,  
 °ट्टुम पु [°ट्टुम] कल्प-वृक्ष (धण ६,  
 महा) °पायव पुं [°पायव] कल्प-वृक्ष (पडि,  
 मुपा ३६)। °पाहुड न [°प्राभृत] जैन  
 ग्रन्थ विशेष (ती)। °स्क्ख पुं [°वृक्ष]  
 कल्प-वृक्ष (परह १, ४)। °वडिंसय न  
 [°वितसक] ? विमान-विशेष। २ विमान-  
 वाली देव-विशेष (निर)। °वडिंसया स्त्री  
 [°वितसिका] जैन ग्रन्थ-विशेष, जिसमें कल्पा-  
 वतसक देव-विमानों का वर्णन है (राय, निर  
 १)। °विडवि पुं [°विटपिन्] कल्प-वृक्ष  
 (मुपा १२६)। °साळ पु [°शाळ] कल्प-वृक्ष  
 (उज १८२ टी)। °साहि पुं [°शाखिन्]  
 कल्प-वृक्ष (मुपा ३६६)। °सुत्त न [°सूत्र]  
 श्रीमद्रवाहु न्वाभि-विरचित एक जैन ग्रन्थ  
 (कप्प, कस)। °सुय न [°श्रुत] ? ज्ञान-  
 विशेष। २ ग्रन्थ-विशेष (रादि)। °डिअ पु  
 [°नीत] उत्तम जाति के देव-विशेष, ग्रैव्यक  
 श्री अनुत्तर विमान के निवासी देव (परह  
 १, ५ परण १)। °ग पु [°ग] विवि को  
 जाननेवाला (कस श्रीप)। °य पु [°य]  
 क, उद्गी, राज-देव नाम (विपा १, ३)।  
 कप्पंत पुं [कल्पान्त] प्रलय-काल, संहार-  
 समय (कप्प)।  
 कापड पुं [कपट] ? कपडा, बन्ध (पटम  
 २५, १८, मुपा ३४४, न १८०)। २ जीर्ण  
 बन्ध, लकुटाकार कपडा (परह १, ३)।  
 कप्पडिअ वि [कार्पटिक] मिश्रक, भीखमंगा  
 (शाया १, ८, मुपा १३८, वृह १)।  
 कप्पडिअ वि [कार्पटिक] कपटी, मायावी  
 (शाया १, ८—पत्र १५०)।  
 कप्पण न [कल्पन] छेदन, काटना (मुपा  
 १३८)।

कल्पणा स्त्री [कल्पना] १ रचना, निर्माण ।  
 २ प्रक्षरण, निष्पण (निचू १) । ३ कल्पना,  
 विकल्प (विसे १६३२) ।  
 कल्पणी स्त्री [कल्पनी] कतरनी, कंचो (परह  
 १, १, विपा १, ४, स ३७१) ।  
 कल्पर पुं [कर्पर] खप्पर, कपाल तिर की  
 खोपडी (वृह ४, नाट) । देखो कुल्पर =  
 कर्पर ।  
 कल्परिअ वि [दे] दारित, बीरा हुआ (दे २,  
 २०, ववा ३८, भवि) ।  
 कल्पास पु [कार्पास] १ कपास, रई । २  
 र्न (निचू ३) ।  
 कल्पासवि पु [कार्पासवि] शैन्दिय जीव-  
 विशेष, धुद्र जन्तु-विशेष (जीव १) ।  
 कल्पासिअ वि [कार्पासिक] १ कपास  
 वेचनेवाला (अणु १४६) । २ न जैनेतर  
 शास्त्र-विशेष (अणु ३६, एदि) ।  
 कल्पासिय वि [कार्पासिक] कपास का बना  
 हुआ, सूती वर्गरू (अणु) ।  
 कल्पासी स्त्री [कर्पासी] रई का गाढ़ (राज) ।  
 कल्पिआकल्पिअ न [कल्पाकल्प] एक जैन  
 शास्त्र (एदि २०२) ।  
 कल्पिय वि [कल्पित] १ रचित, निर्मित  
 (श्रौप) । २ स्थापित, समीप में रखा हुआ;  
 'सि अनए कुमारे तं अल्ल मसं रहिरं अण्य-  
 कल्पियं करेइ' (निर १, १) । ३ कल्पना निर्मित,  
 विकल्पित (दयनि १) । ४ व्यवस्थित (आचा,  
 नूय १ २) । ५ छिन्न, काटा हुआ (विपा  
 १, ४) ।  
 कल्पिय वि [कल्पिक] १ अनुमत, अनिपिद्ध  
 (उवर १३०) । २ योग्य, उचित (गच्छ १,  
 वव ८) । ३ पु गीतार्थ, ज्ञानी माधु; 'कि वा  
 अकल्पिएणं' (वव १) ।  
 कल्पिया स्त्री [कल्पिका] जैन ग्रन्थ-विशेष,  
 एक उपाङ्गग्रन्थ (ज १, निर) ।  
 कल्पर पु [कर्पर] कपूर, सुगन्धि द्रव्य-विशेष  
 (परह २, ५, मुर २, ६, सुपा २६३) ।  
 कल्पोवग पु [कल्पोपक] १ कल्प-युक्त । २  
 देव-विशेष, बाह्य देव लोक-नामी देव (परह  
 २१) ।  
 कल्पोववण पु [कल्पोपपन्न] ऊपर देखो  
 (सुपा ८८) ।

कल्पोववत्तिआ स्त्री [कल्पोपपत्तिका] देव-  
 लोक विशेष में उत्पत्ति (भग) ।  
 कल्फल न [कटफल] इस नाम की एक  
 वनस्पति, कायफन (हे २, ७७) ।  
 कल्पाड देखो कवाड = कपाट (गठड) ।  
 कल्पाड [दे] देखो कफाड (पाअ) ।  
 कफ पु [कफ] कफ, शरीर स्थित घातु विशेष  
 (राज) ।  
 कफाड पु [दे] गुफा, गुहा (दे २, ७) ।  
 कवध (श्री) देखो वमध (प्राक ८५) ।  
 कच्चट्टी स्त्री [दे] छोटी लडकी (पिड २८५) ।  
 कच्चड } पुन [कर्वट] १ खराव नगर,  
 कच्चडग } कुलित शहर (भग, परह १,  
 २) । २ पु ग्रह विशेष, ग्रहाविधायक देव-विशेष  
 (ठा २, ३—पत्र ७८) । ३ वि कुनगर का  
 निवासी (उत्त ३०) ।  
 कच्चर देखो कच्चुर (प्राक ७) ।  
 कच्चडभयय पु [दे] ठीका पर जमीन खोदने  
 का काम करनेवाला मजदूर (ठा ४, १—पत्र  
 २०३) ।  
 कच्चुर } वि [कर्चुर] १ कवरा, चितक  
 कच्चुरय } वरा, चितला (गठड, अचु  
 ६) । २ पु. ग्रह-विशेष, ग्रहाविधायक देव-  
 विशेष (ठा २, ३, राज) ।  
 कच्चुरिअ वि [कर्चुरित] अनेक वर्षावाला,  
 चितकवरा किया हुआ, 'देहकतिकच्चुरिय-  
 जम्मगिह' (सुपा ७४), 'मणियतोरणवोर-  
 णितरणपहाकिरणकच्चुरिअ' (कुम्मा ६,  
 पठम ८२, ११) ।  
 कभ (अप) देखो कफ (पड) ।  
 कभल्ल न [दे] कपाल, खप्पर (अनु ५, उवा) ।  
 कभ सक [कम्] १ चलना, पांव उठाना ।  
 २ उल्लंघन करना । ३ अक फैलना,  
 पसरना । ४ होना, 'मणसोवि विसयनियमो  
 न कभड जथो न सव्वत्य' (विसे २४६),  
 'न एत्य उवायंतर कभइ' (स २०६) । वक.  
 वमत (से २, ६) । क कभणिज्ज (श्रौप) ।  
 कभ सक [कम्] चाहना, वाञ्छना । कवक  
 कम्ममाण (दे २, ८५) । क कभणीय  
 (सुपा ३४, २६२), वम्म (राया १, १४  
 टी—पत्र १८८) ।  
 कभ अक [कम्] १ संगत होना, युक्त होना,

घटना । २ अधिक रहना । कमइ (पिड २३१,  
 पव ६१) ।  
 कम पुं [कम्] १ पाद, पग, पांव (सुर १,  
 ८) । २ परम्परा, 'नियकुलकमागयाओ पिडणा  
 विज्जाओ मज्ज दिन्नाओ' (मुर ३, २८) ।  
 ३ अनुक्रम, परिवाटी (गठड) । ४ मर्यादा,  
 सीमा (ठा ४) । ५ न्याय, फैला, 'प्रवि-  
 आरिअ कम ए करिस्सदि' (स्वप्न २१) ।  
 ६ नियम (वृह १) ।  
 कम पु [कम्] श्रम, थकावट, क्लान्ति (हे  
 २, १०६, कुमा) ।  
 कमडल्ल पुंन [कमण्डलु] सन्यासियों का  
 एक मिट्टी या काष्ठ का पात्र (निर ३, १,  
 परह १, ४, उव ६४८ टी) ।  
 वमध पुन [कचन्ध] रुड, मस्तकहीन शरीर  
 (हे १, २३६, प्राप्र, कुमा) ।  
 कमठ पु [दे] १ दही की कलशी । २  
 पिठर, स्याली । ३ बलदेव । ४ मुख, मुँह  
 (दे २, ५५) ।  
 कमठ । पु [कमठ, क] १ तापस-विशेष,  
 कमठग, जिसको भगवान् पार्श्वनाथ ने बाद में  
 कमठय जीता था और जो मरकर दैत्य हुआ  
 था (एमि २२) । २ कूर्म, कच्छप (पाअ) ।  
 ३ वश, वांस । ४ शल्लकी वृक्ष (हे १,  
 १६६) । ५ न मैल, मल (निचू ३) । ६  
 साधियों का एक पात्र (निचू १, श्रौष ३६  
 भा) । ७ साधियों को पहनने का एक वस्त्र  
 (श्रौष ६७५, वृह ३) ।  
 कमण न [कमण] १ गति, चाल । २ प्रवृत्ति  
 (आचू ४) ।  
 कमणिआ स्त्री [कमणिका] उपानत्, जूता  
 (वृह ३) ।  
 कमणिह वि [कमणीवन्] जूतावाला, जूता  
 पहना हुआ (वृह ३) ।  
 कमणी स्त्री [कमण] जूता, उपानत् (वृह ३) ।  
 कमणी स्त्री [दे] नि श्रेणि, सीढ़ी (दे २, ८) ।  
 कमणीय वि [कमनीय] सुन्दर, मनोहर  
 (सुपा ३४, २६२) ।  
 कमल पु [दे] १ पिठर, स्याली । २ पट्ट,  
 डोल (दे २, ५४) । ३ मुख, मुँह (दे २,  
 ५४, पड) । ४ हरिण, मृग, 'तत्य य एगो  
 कमनो सगवमहरिणीए संगओ वसइ' (सुर

१५, २००, दे २, ५४; अणु, कप्प, श्रीप) ।  
५ कलह, भगटा ( पड् ) ।

कमल पुन [कमल] एक देव-विमान (देवेन्द्र  
१४२) । °णअण पु [नयन] विष्णु,  
नारायण (ममु १५२) ।

कमल न [कमल] १ कमल, पद्म, अरविन्द,  
(कप्प, कुमा, प्रासू ७१) । २ कमलाख्य  
इन्द्राणी का सिंहासन । ३ सख्या विशेष,  
'कमलाग' को चौरासी नाल से गुणने पर जो  
सख्या लख हो वह (जो २) । ४ छन्द-  
विशेष (पिग) । ५ पु कमलाख्य इन्द्राणी के  
पूर्व जन्म का पिता (राया २) । ६ श्रेष्ठि-  
विशेष (सुपा २७५) । ७ पिंगल-प्रनिद्ध एक  
गण, अन्य अक्षर जिसमे गुरु हो वह गण  
(पिग) । ८ एकजात का चावल, क्लम  
(प्राप्र) । °कख पु [°क्ष] इस नाम का एक  
यज्ञ (सण) । °जय न [°जय] विद्यावरों  
का एक नगर (इक) । °जोगि पु [°जोगि]  
ब्रह्मा, विद्याता (पाप्र) । °पुर न [°पुर]  
विद्यावरों का एक नगर (इक) । °पभा  
स्त्री [प्रभा] १ काल-नामक पिशाचेन्द्र की  
अग्र-महिषी (ठा ४, १) । २ 'जाता वमंकया'  
सूत्र का एक अर्थयत (राया २) । °वन्धु  
पु [°वन्धु] १ सूर्य, रवि (पचम ७०, ६२) ।  
२ इस नाम का एक राजा (पचम २२, ६८) ।  
°माला स्त्री [°माला] पोतनपुर नगर के  
राजा श्रानन्द की एक रानी, भावान् अजि-  
तनाथ की मातामही—दादी (पचम ५, ५२) ।  
°रय पु [°रजस्] कमल का पराग  
(पाप्र) । °वडिसय न [°वितसक] कमला-  
नामक इन्द्राणी का प्राणाद (राया २) ।  
°सिरी स्त्री [°श्री] कमला-नामक इन्द्राणी  
की पूर्व जन्म की माता का नाम (राया २) ।  
°सुदरी स्त्री [°सुन्दरी] इस नाम की एक  
रानी (उप ७२८ टी) । °सेणा स्त्री [°सेना]  
एक राज-पुत्री (महा) । °अर, °गार पु  
[°गर] १ कमल का समूह । २ सरोवर,  
हृद वगैरह जलाशय (ने १, २६; कप्प) ।  
°पीड, °मिल पु [°पीड] भरत चक्रवर्ती  
का अश्व-रत्न (जं ३, पि ६२) । °सण पु  
[°सन्] ब्रह्मा, विद्याता (पाप्र; दे ७, ६२) ।

कमलग न [कमलाङ्ग] संख्या विशेष, चौगती  
लान् महापद की संख्या (जो २) ।

कमला स्त्री [दे] हरिणी, मृगी (पाप्र) ।

कमला स्त्री [कमला] १ लक्ष्मी (पाप्र, मुपा  
२७५) । २ रावण की एक पत्नी (पचम  
७४, ६) । ३ काल नामक पिशाचेन्द्र की एक

अग्र-महिषी, इन्द्राणी विशेष (ठा ४, १) ।  
४ 'जाता वमंकया' सूत्र का एक अर्थयत  
(राया २) । ५ छन्द-विशेष (पिग) । °अर  
पु [°कर] वनाख्य, वनी (से १, २६) ।

कमलिणी स्त्री [कमलिनी] पत्पिनी, कमल  
का गच्छ (पाप्र) ।

कमलुच्चमपु [कमलोद्भव] ब्रह्मा (पि ८२) ।

कमव ? अक [त्वप्] सोना, मो जाना ।  
कमवस } कमवइ ( पड् ) । कमवसइ (हिं  
४, १४६; कुमा) ।

कमसो अ [क्रमश] क्रम से, एक-एक करके  
(सुर १, ११६) ।

कमिअ वि [दे] उपसर्पित, पात आया हुआ  
(दि २, ३) ।

कमिच वि [क्रान्त] उल्लिखित (दस २, ५) ।

कमेलग ? पुल्लो [कमेलक] उट्ट, ऊँट (पाप्र,  
कमेलय } उप १०३१ टी; कर ३३) । स्त्री  
°गी (उप १०३१ टी) ।

कम्म सक [कृ] हजामत करना, क्षौर-कर्म  
करना । कम्मइ (हे ४, ७२; पड्) । वकृ  
कम्मत (कुमा) ।

कम्म सक [मुज्] भोजन करना । कम्मइ  
(पड्) । कम्मइ (हे ४, ११०) ।

कम्म देखो कम् = कम्

कम्म पुन [कम्मन्] १ जीव द्वारा ग्रहण  
किया जाता अत्यन्त सूक्ष्म पुद्गल (ठा ४,  
४; कम्म १, १) । २ काम, क्रिया, करनी,  
व्यापार (ठा १; आचा), 'कम्मा एणएफ्फा'  
(पि ६७२) । ३ जो किया जाय वह । ४

व्याकरण प्रसिद्ध वारक-विशेष (विसे २०६६,  
३४२०) । ५ वह न्यान, जहाँ पर नूना  
बौरह पकाया जाता है (परह २, ५ - पत्र  
१२३) । ६ पूर्व-कृति, भाग्य, 'कम्मत्ता दुग्गमा  
चेव' (सूत्र १, ३, १, आचा (पड्) । ७

कामण शरीर । ८ कामण-शरीर नामकर्म,  
कर्म-विशेष (कम्म २, २१) । °कर वि  
[°कर] नौकर, चाकर (आचा) । देखो °गार ।

°करण न [°करण] कर्म-विषयक वचन,  
जीव-पराक्रम-विशेष (भग ६, १) । °गर  
वि [°वार] नौकर (पचम १७, ७) ।

°कित्थिस वि [°कित्थिप] कर्म-चाण्डाल,  
खराब काम करनेवाला (उत्त ३) । °क्खंघ  
पु [°स्कन्ध] कर्म-पुद्गलों का पिण्ड (कम्म  
५) । °गर देवो °कर (प्राह्) । °गार पुं

[°गर] १ कारीगर, गिन्पी (राया ६,  
६) । देखो °कर । °जोग पुं [°जोग]  
शास्त्रोक्त अनुष्ठान (कम्म) । °ट्टाण न

[°स्थान] कारखाना (आचा) । °ट्टिइ स्त्री  
[°स्थिति] १ कर्म-पुद्गलों का अर्थन्यान-  
मय (भग ६, ३) । २ वि समारी जीव  
(भग १८, ६) । °णिमेग पु [°निपेक]

कर्म-पुद्गलों की रचना-विशेष (भग ६, ३) ।  
°धारय पुं [°वारय] व्याकरण-प्रसिद्ध एक  
समास (अणु) । °परिसाडणा स्त्री [°परि-  
शाटना] कर्म-पुद्गलों का जीव-प्रदेशों से  
पृथक्करण (सूत्र १, १) । °पुरिस पुं

[°पुरूप] कर्म प्रदान पुन्य—१ कारीगर,  
शिल्पी (सूत्र १, ४, १) । २ महारम्भ करने-  
वाले वामुदेव वगैरह राजा लोग (ठा ३,  
१—पत्र ११३) । °पवाय न [°प्रवाद]

जैन ग्रन्थ-विशेष, शाठवां पूर्व (कम्म २६) ।  
°वय पु [°वन्ध] कर्म पुद्गलों का आत्मा में  
लगना, कर्मों ने आत्मा का बन्धन (आव  
३) । °भूमग वि [°भूमिक] कर्म-भूमि में  
उत्पन्न (परण १) । °भूमि स्त्री [°भूमि]

कर्म-प्रदान भूमि, भरत क्षेत्र वगैरह (जो  
२३) । °भूमिग देखो °भूमग (परण २३) ।  
°भूमिच वि [°भूमिज] कर्म-भूमि में  
उत्पन्न (ठा ३, १—पत्र ११४) । °मास  
पु [°मास] श्रावण मास (जो १) । °मासग  
पुं [°मापक] मान-विशेष, पांच गुज्जा, पांच  
रत्ती (अणु) । °य वि [°ज] १ कर्म से  
उत्पन्न होनेवाला । १ कर्म-पुद्गलों का बना  
हुआ शरीर-विशेष, कामण शरीर (ठा २,  
१, ५, १) । °या स्त्री [°जा] अस्मात् से  
उत्पन्न होनेवाली बुद्धि, अनुभव (एदि) ।

°लेस्ता स्त्री [°लेश्या] कर्म द्वारा होनेवाला  
जीव का परिणाम (भग १४, १) । °वगणा  
स्त्री [°वर्गणा] कर्म-रूप में परिणत होनेवाला

पुद्गल मरुह (पंच) । °वाड वि [°वादिन्] भाव्य को ही सब कुछ माननेवाला (राज) । °विवागं पु [°विपाक] १ कर्म परिणाम, कर्म-फल । २ कर्म-विपाक वा प्रतिपादक ग्रन्थ (कम्म १, १) । °संवच्छर पु [°सवत्सर] लौकिक वर्ष (मुज्ज १०) । °माला स्त्री [°शाला] १ काखवाला । २ कुम्भवार का पटादि बनाने का स्थान (बृह २) । °सिद्ध पु [°सिद्ध] कागीर, शिल्पी (श्रावण) । °जीव [°जीव] १ वारोहर । २ कारोहरी का कोई भी काम बतनाकर निनादि प्राप्त करनेवाला माधु (ठा ५, १) । °टाण न [°टान] जिसमें भागे पाप हो ऐसा व्यापार (भग ८, ५) । °यरिय पु [°र्य] कर्म से भाव्य, निर्दोष व्यापार करने-वाला (परण १) । °वाड देखो °वाट (श्राव) ।

कम्म वि [कर्मण] १ कर्म-सम्बन्धी, कर्म-जन्य, कर्म-निर्मित, कर्म-जन्य । २ न कर्म-पुद्गल का ही बना हुआ एक प्रथमतः सूक्ष्म शरीर, जो भवान्तर में भी प्रात्मा के साथ ही रहता है (ठा १, कम्म ४) । २ कर्म-विशेष, कामण-शरीर वा हेतु मृत कर्म (कम्म २, २१) । ३ कामण-शरीर का व्यापार (कम्म २, १५, कम्म ४) ।

कम्मइय न [कर्मचित्त, कर्मण] ऊपर देखो (पठम १०२, ६८) ।

कम्मंत पु [दे. कर्मान्] १ कर्म-वन्धन का कारण (श्राव, मूम २, २) । २ कर्म-स्थान, काम्बाना (दि २, ५२) ।

कम्मत वि [कुर्वन्] १ हजामत करता हुआ । २ हजाम, नापित (कुमा) । °साळा स्त्री [°शाला] जहाँ पर उन्तरा—वाल बनाने वा छुट प्रादि सजाया जाता हो वह स्थान (निबू ८) ।

कम्मकर देखो कम्म-कर (प्राकृ २६) ।

कम्मग न [कर्मक, कामक, कर्मण] देखो कम्म = कामण (ठा २, २, परण २१, (भग) ।

कम्मण न [कर्मण] १ कर्म मय शरीर (दि २२) । २ श्रौष्य, मन्त्र प्रादि के द्वारा मोहन, वशीकरण, उच्चाटन प्रादि कर्म (उप १३४ टी, न १०८) । °गारि वि [°गारिन्] १

कामण करनेवाला (सुर १, ६८) । °जोय पु [°जोग] कामण-प्रयोग (साया १, १४) । कम्मण न [भोजन] भोजन (कुमा) ।

कम्ममाण देखो कम्म = कम् ।

कम्मय देवो कम्मग (भग, पच) ।

कम्मव मक [उप + भुज] उपभोग करना ।

कम्मवइ (हे ४ १११, पड्) ।

कम्मवण न [उपभोग] उपभोग, काम में लाना (कुमा) ।

कम्मम वि [कलम] १ मनिन । २ न. पाप (पात्र, हे २, ७६, प्रामा) ।

कम्मा स्त्री [कर्मन] क्रिया, व्यापार (ठा ४, २—पत्र २१०) ।

कम्मर पुं [कर्मर] १ लोहार, लोहकार (विसे १५६८) । २ ग्राम-विशेष (श्राकृ ६) ।

कम्मर वि [कर्मकार, °क] १ नौकर, कम्मरग चाकर (स ५३७, श्रौष ४, ६४ कम्मरय टी) । २ कारीर, शिल्पी (जीव ३) ।

कम्मरिया स्त्री [कर्मरिका] स्त्री-नौकर, दासी (मुपा ६३०) ।

कम्मि वि [कर्मिन्] कर्म करनेवाला कम्मिअ } श्रम्यानीः

'एववम्मिएण उअ पामरेण देट्ठएण पाउहारीयो मोतव्वे जोतअपग्गहम्मि अवरसणी मुक्का।।' (गा ६६४) ।

२ पाप कर्म करनेवाला (मूम १, ७, ६) ।

कम्मिया स्त्री [कर्मिनी, कर्मिका] १ श्रम्याय में उत्पन्न होनेवाली बुद्धि (साया १, १) ।

२ प्रक्षीण कर्म विशेष, अशुचि कर्म (भग) ।

कम्महल न [कट्टमल] पाप (राज) ।

कम्महा अ [कत्तात्] त्यों, किस कारण से ? (श्रौष) ।

कम्महार देवो कम्मर (हे २, ५४) । °ज न [°ज] केसर, कुकुम (कुमा) ।

कम्मिअ पु [दे] माली, मालाकार (दि २, ८) ।

कम्महीर देखो कम्मर (मुद्रा २४२, पि १२०, ३१२) ।

कय पु [कच] केश, बाल (हे १, १७७, कुमा) ।

कय पु [कय] खरीदना (मुपा ३४४) ।

कय देखो कड = कृत (श्राव, कुमा, प्रासू १५) ।

°उण्ण, °उन्न वि [°पुण्य] पुण्यशाली, भाग्यशाली (स ६०७, मुपा ६०६) । °क

देखो °ग (परह १, २) । °कज्ज वि [°काय] कृतार्थ, सफल-मनोरथ (साया १, ८) ।

°करण वि [°करण] श्रम्यासी, कृतश्रम्याय (बृह १, परह १, ३) । °किच्च वि [°कृत्य] कृतार्थ, सफल मनोरथ (मुपा २७) । °ग वि [°क] १ श्रपती उत्पत्ति में दूसरे की श्रपेता करनेवाला, प्रयत्न-जन्य (विसे १८३७, स ६५३) । पु दास-विशेष, गुलाम, 'भयगमत्तं वा वनभत्तं वा कयगमत्तं वा' (निबू ६) । ३ न मुवर्ण, मोना (राज) । °ग्घ वि [°घ्न] उपकार न माननेवाला, कृतघ्न (सुर २, ४४, मुपा ५८८) । °जाणुअ वि [°ज्ञायक] कृतज्ञ, उपकार नो माननेवाला (पि ११८) । °णु वि [°ज्ञ] उपकार को माननेवाला, किए हुए उपकार की कदर करनेवाला (वम्म २६) । °णुया स्त्री [°ज्ञता] कृतज्ञता, एहमानमन्दी, निहोरा मानना (उप ५ ८६) । °थ वि [°र्थ] कृतकृत्य, चरितार्थ, सफल-मनोरथ (प्रासू २३) । °नासि वि [°ना-गिन्] कृतघ्न (श्रौष १६६) । °न्न, °न्नु देवो °णु, 'जं कित्तिजलहिग्गया विवेयनय-मदिर कयन्नगुल' (मुपा ३०१, महा, सं ३३, श्रा २८) । °पजलि वि [°प्राजलि] कृताञ्जलि, नमस्कार के लिए जिसने हाथ ऊँचा किया हो वह (श्राव) । °पडिकइ स्त्री [°प्रतिकृति] १ प्रत्युपकार (पंचा १६) । २ विनय-विशेष (वव १) । °पडिकइया स्त्री [°प्रतिकृतिता] १ प्रत्युपकार (साया १, २) । २ विनय का एक भेद (ठा ७) । °वल्लिकम्म वि [°वल्लिकर्मन्] जिसने देवता की पूजा की है वह (भग २, ५, साया १, १६—पत्र २१०, तदु) । °मगळा स्त्री [°मङ्गला] इस नाम की एक नगरी (सया) । °माल, °मालय वि [°माल, °क] १ जिमने माला बनाई हो वह । २ पु वृक्ष-विशेष, कनेर का गाय, 'अवोल्लविल्लसल्लइकयमानतमाल-सालइह' (उप १०३१ टी) । ३ तमिसानामक गुफा का अविद्यायक देव (ठा २, ३) । °लम्बण वि [°लम्बण] जिसने अपने शरीर चिन्ह को सफल किया हो वह (भग ६, ३३, साया १, १) । °व वि [°वत्] जिसने किया हो वह (विसे १५५५) । °वणमाल-

पिय पु [°वनमालप्रिय] उस नाम का एक यज्ञ (विषा २, १) । °वम्म पु [°वर्मन्] नृप-विशेष, नावान् विमलनाय का पिता (सम १५१) । °वीरिय पु [°वीर्य] कर्त-वीर्य के पिता ना नाम (सूष १, ८) ।

क्य अ [ क्यन् ] अलम्, वस (उवर १४४) । क्यगला स्त्री [क्यगला] श्रावन्ती नगरी के नमोप की एक नगरी (भा) ।

क्यत पुं [क्यन्त] १ यम, मृत्यु, मरण (मुषा १६६, नुर २, ५) । २ शान्त्, सिद्धान्त, 'मरणति क्य त ज क्यतसिद्ध उ सपरहिम्' (सार्ध ११७, मुषा ११६) । ३ रावण का इन नाम एण् नुनट (पठम ५६, ३१) । °मुह पु [°मुख] रामचन्द्र के एक सेनापति का नाम (पठम ६८, ६२) । °वयण पु [°वदन] राम का एक सेनापति (पठम ६८, २०) ।

क्यध देखो क्यध (हे १, १३६, पङ्) । क्यध देखो क्यध (पण १, हे १, २२२) । क्यध पु [क्यध] समूह, 'अप्याण पित्त सर्वं जीवकयव च रक्त्रु स्याति' (सर्वाव २०) ।

क्यधिय वि [क्यधिय] अन्कृत, विनूषित (कप्य) ।

क्यधुअ देखो क्यधुअ (कप्य) ।

क्यग वि [क्यग] प्रयत्न-जन्य (वर्मस २६६, ४१४) ।

क्यग वि [क्यग] खरोदनेवाला (वव १ टी) । क्यग पुं [क्यग] १ वृद्ध-विशेष, निर्मली । २ न कतक-फल, निर्मली-फल, पायपकारी, 'जह क्यगमजणार्ड जतवुद्धीयो विचोहिति' (विवे ५३६ टी) ।

क्यज वि [क्यज] क्यज, क्यज (राज) ।

क्यज्जि पुं [क्यज्जि] इस नाम का एक यज्ञ देवता (मुषा ५८२) ।

क्यण न [क्यण] हिमा मार शानना (हे १, २१७) ।

क्यत्य सक [क्यत्य] हैरान करना, पीडा करना । क्यत्ये (वम्म ८ टी) । क्यक क्यत्यज्जत (न ८) ।

क्यत्यण न [क्यत्यण] हैरानी, हैरान करना, पीडन (मुषा १८०, महा) ।

क्यत्यणा स्त्री [क्यत्यणा] ऊपर देवी (स ४७२, नुर १५, १) ।

क्यत्यिय वि [क्यत्यिय] हैरान किया हुआ, पीडित (मुषा २२७, महा) ।

क्यन्न वि [क्यन्न] खराब अन्न (धर्मवि १३६) ।

क्यम वि [क्यम] बहुत मे से कौन ? (स ४०२) ।

क्यर वि [क्यर] दो में से कौन ? (हे ३, ५८) ।

क्यर पु [क्यर] ८ वृद्ध-विशेष, करीर, करील (न २५६) । २ न करीर का फल (पना १८) ।

क्यल पु [क्यल] १ कदली-वृद्ध, बेला का गाछ । २ न कदली फल, बेला (हे १, १६७) ।

क्यल न [क्यल] अतिशय, पानी भरने का बहा गगरा, फफर, मटका (दे २, ४) ।

क्यलि, °ली स्त्री [क्यलि, °ली] बेला का गाछ (महा, हे १, २२०) । °समागम पु [°समागम] इस नाम का एक गाँव (श्रावम) । °हर न [°गृह] कदली-स्तम्भ मे बनाया हुआ घर (महा, नुर ३, १८, ११६) ।

क्यल्लय देखो क्यल्लय = क्यल्लय (मुज २, ३) ।

क्यवर पु [क्यवर] १ कतवार, कूडा, मैला (शाया १, १, मुषा ३८, ८७, स २६४, भत ८६, पात्र, सण, पुष्क ३१; निहू ७) । २ विष्ठा (श्राव १) ।

क्यवरुज्जिया स्त्री [क्यवरुज्जिया] कूडा साफ करनेवाली दासी (शाया १, ७—पत्र ११७) ।

क्यवाड पुं [क्यवाड] कुकुट, कुकडा, मुर्गा (गडड) ।

क्यवाय पु [क्यवाय] कुकुट, कुकडा, मुर्गा (पात्र) ।

क्यसण न [क्यसण] खराब भोजन (विवे १३६) ।

क्यसेहर पु [क्यसेहर] कुकडा, मुर्गा, 'क्यसेहराण सुम्मड आलावो भत्ति गोमम्मि' (ववा ७०) । क्यअ [क्यअ] क्य, किस समय ? (ठा ३, ४, प्रासू १६६) ।

क्यअअ [क्यअअ] कनी भी, विनी समय भी (उवा) ।

क्याई } अ [क्याचित्] १ किसी समय, क्याइ } कनी (उवा, वनु): 'अह अन्ना क्याइ' (मुषा ५०६, पि ७०) । २ वितक-यौतक अव्यय, 'नट्टुंति क्याइति' (भग ६५) ।

क्याण न [क्याणक] बेचने योग्य वस्तु, करियाना (उप पृ १२०) ।

क्याणग पुन देखो क्याण, 'दिव निप्रवा-हणाण कयाणो किं न विककेह' (मिदि ४७८) ।

क्यार पु [क्यार] कतवार, कूडा, मैला (दे २, ११, भवि) ।

क्याधि देखो क्याधि = कदापि (प्रासू १३१) ।

क्योग पुं [क्योग] नट-विशेष, बहुरूपिया (वृह ४) ।

कर सक [कर] करना, बनाना । करइ (हे ४, २३४) । नूका कासी, काही, काहीम, करिनु, करेमु, मनासि, मकासी (हे ४, १६२, कुमा, भग, कप्य) । भवि काहिइ, काही, करिन्सइ, करिहिइ, काहं, काहिमि (हे १, ५, पि ५३३, कुमा) । कर्म वजइ, करीइ, करिइइ (ना, हे ४, २५०) । वक करत, करित, करेत, करेमाण (पि ५०६, खण ७२, से २, १५, सुर २, २००, उवा) । कक कजमाण, किरत, कीरमाण (पि ५४७, कुमा; ना २७२, खण ८६) । सक करित्ता, करि-त्ताण, करिदूण, काड, काऊण, काऊणं, कट्टु, करिअ, किञ्चा, किय्याण (कप्य, दस ३, पङ्, कुमा, ना; अमि ४१, सूष १, १, १, श्रौप) । हेक काड, करेत्तए (कुमा, भग ८, २) । क करणिज्ज, करणीअ, करि-अअ, करेअअ, कायअ (दस १०, पङ्; स २१, प्रासू १८८, कुमा) । प्रयो करावेइ, करावेई (पि ५५३, ५५२) ।

कर सक [कर] करना, बनाना । करइ (हे ४, २३४) । नूका कासी, काही, काहीम, करिनु, करेमु, मनासि, मकासी (हे ४, १६२, कुमा, भग, कप्य) । भवि काहिइ, काही, करिन्सइ, करिहिइ, काहं, काहिमि (हे १, ५, पि ५३३, कुमा) । कर्म वजइ, करीइ, करिइइ (ना, हे ४, २५०) । वक करत, करित, करेत, करेमाण (पि ५०६, खण ७२, से २, १५, सुर २, २००, उवा) । कक कजमाण, किरत, कीरमाण (पि ५४७, कुमा; ना २७२, खण ८६) । सक करित्ता, करि-त्ताण, करिदूण, काड, काऊण, काऊणं, कट्टु, करिअ, किञ्चा, किय्याण (कप्य, दस ३, पङ्, कुमा, ना; अमि ४१, सूष १, १, १, श्रौप) । हेक काड, करेत्तए (कुमा, भग ८, २) । क करणिज्ज, करणीअ, करि-अअ, करेअअ, कायअ (दस १०, पङ्; स २१, प्रासू १८८, कुमा) । प्रयो करावेइ, करावेई (पि ५५३, ५५२) ।

कर पु [कर] एक महाग्रह (मुज २०) ।

कर पु [कर] १ हन्त, हाय (सुर १, ५४; प्रासू ५८) । २ महसूल, चुंगी (उप ७६८ टी; सुर १, ५४) । ३ किरण, अशु (उप ७६८ टी, कुमा) । हायी की सूँह (कुमा) । ५ करका, गिना-वृष्टि, श्रोला, 'करच्छदाभडि-यपक्खिल्ले' (पठम ६६, १५) । °ग्गह पुं [°ग्रह] १ हाय से ग्रहण करना; 'दइअ-

कर पु [कर] एक महाग्रह (मुज २०) ।

कर पु [कर] १ हन्त, हाय (सुर १, ५४; प्रासू ५८) । २ महसूल, चुंगी (उप ७६८ टी; सुर १, ५४) । ३ किरण, अशु (उप ७६८ टी, कुमा) । हायी की सूँह (कुमा) । ५ करका, गिना-वृष्टि, श्रोला, 'करच्छदाभडि-यपक्खिल्ले' (पठम ६६, १५) । °ग्गह पुं [°ग्रह] १ हाय से ग्रहण करना; 'दइअ-

कर पु [कर] एक महाग्रह (मुज २०) ।

कर पु [कर] १ हन्त, हाय (सुर १, ५४; प्रासू ५८) । २ महसूल, चुंगी (उप ७६८ टी; सुर १, ५४) । ३ किरण, अशु (उप ७६८ टी, कुमा) । हायी की सूँह (कुमा) । ५ करका, गिना-वृष्टि, श्रोला, 'करच्छदाभडि-यपक्खिल्ले' (पठम ६६, १५) । °ग्गह पुं [°ग्रह] १ हाय से ग्रहण करना; 'दइअ-

कर पु [कर] एक महाग्रह (मुज २०) ।

कर पु [कर] १ हाय से ग्रहण करना; 'दइअ-

करगहलुलिओ वम्मिली (गा ५४४) । २ पाणि-ग्रहण, शादी (राज) । °य पुं [°ज] नव (काप्र १७२) । °रूह पुंन [°कररूह] १ नख (हे १, ३४) । २ पु नृप-विशेष (पउम ७७, ८८) । °लाघव न [°लाघव] कला-विशेष, हस्त-लाघव (कप्प) । °वन्दन न [°वन्दन] वन्दन का एक दोष, एक प्रकार का शुल्क समझकर वन्दन करना (वृह ३) । करअडी } ओ [दे] स्थूल वस्त्र, मोटा कपडा करअरी } (दे २, १६) ।

करआ ओ [करका] करका, ओला, शिला-वृष्टि (अचु ६४) ।

करइली ओ [दे] शुष्क-वृक्ष, सूखा पेठ (दे २, १७) ।

करक पु [दे करङ्क] १ भिक्षा-पात्र (दे २, ५५, गठड) । २ अशोक-वृक्ष (दे २, ५५) ।

करक पुन [करङ्क] १ हड्डी, हाड, 'करकच-यभीमणे मसाणम्मि' (मुपा १७५) । २ अन्ध-पञ्जर, हाड-पञ्जर (उप ७२८ टी) । ३ पानदान, पान वगैरह रखने की छोटी पेटो, 'तबोलकरवाहियाओ' (कप्प) । ४ हड्डियों का ढेर (सुर ६, २०३) ।

करज सक [भञ्ज] तोडना, फोडना, टुकडा करना । करंजइ (हे ४, १०६) ।

करज पु [करञ्ज] वृक्ष विशेष, करिजा (पएण १, दे १, १३, गा १२१) ।

करज पुं [दे] शुष्क-त्वक्, सूखी त्वचा (दे २, ८) ।

करजिअ वि [भञ्ज] तोडा हुआ (कुमा) ।

करड पुंन [करण्ड] वंशाकार हड्डी (तंडु ३५) ।

करड } पुं [करण्ड, °क] १ करण्ड, करडग } डिब्बा, पेटिका (पएह १, ५, करडय) } आ १४, ठा ४, ४) ।

करडिया ओ [करण्डिका] छोटा डिब्बा (एया १, ७, सुपा ४२८) ।

करंडी ओ [करण्डी] १ डिब्बा, पेटिका (आ १४) । २ कुंडी, पात्र-विशेष (उप ५६३) ।

करंडुय न [दे] पीठ के पास की हड्डी (पएह १, ४—पत्र ७८) ।

करंत देवो कर = कृ ।

करंव पु [करम्ब] दही और भात का बना

हुआ एक खाद्य द्रव्य, दध्योदन (पाप्र: दे २, १४, सुपा १३६) ।

करविय वि [करम्बित] व्याप्त, खचित (सुपा ३४, गठड) ।

करकट पु [करकण्ट] इस नाम का एक परिव्राजक, तापस-विशेष (श्रीप) ।

करकडु पु [करकण्डु] एक जैन महर्षि (महा, पठि) ।

करकचिय वि [करकचित] करवत आदि से फाटा हुआ (अणु १५४) ।

करकड वि [दे करकर कर्कट] १ कठिन, पक्ष्य (उवा) ।

करकडी ओ [दे करकटी] चियडा, निन्दनीय वस्त्र-विशेष, जो प्राचीन काल में वच्य पुरुष को पहनाया जाता था (विपा १, २—पत्र २४) ।

करकय पु [करकच] करपत्र, करात, आरा (पएण १, १) ।

करकर पुं [करकर] 'कर-कर' आवाज (एया १, ६) । °सुठ पुंन [°शुण्ठ] वृण-विशेष (पएह १—पत्र ४०) ।

करकरिग पु [करकरिक] ग्रह-विशेष, ग्रहाधि-ष्टायक देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८) ।

करग देखो करग = करक (एदि ५०) ।

करग पुं [करक] १ करका, ओला (आ २०, शोध ३४३, जी ५) । २ पानी की कलशी, जल पात्र (अनु ५, आ १६, सुपा ३३६, ३६४) । देखो करय = करक ।

करगय देखो करकय (स ६६६) ।

करगह देखो कर-गह (सम्मत १७३) ।

करघायल पु [दे] क्लिाट, दूध की मलाई (दे २, २२) ।

करच्छ्रोडिया ओ [दे] ताली, ताल (सुच २, १५) ।

करट्ट पुं [दे] अपवित्र अन्न को खानेवाला ब्राह्मण (मृच्छ २०७) ।

करड पु [करट] १ काक, कौआ (सर १, १४) । २ हाथी का गण्ड-स्थल (सुपा १३६, पाप्र) । ३ वाद्य-विशेष (विक्र ८५) । ४ कुसुम्भ-वृक्ष । ५ करीर-वृक्ष । ६ गिरगिट, सरट । ७ पाखडी, नास्तिक । ८ विशेष (दे २; ५५ टी) ।

करड पु [दे] १ व्याघ्र, शेर । २ वि. कवरा, चितकवरा (दे २, ५५) ।

करडा ओ [दे] लट्वा—१ एक प्रकार का करज वृक्ष । २ पक्षि विशेष, चटक । ३ भ्रमर, भौरा । ४ वायु-विशेष (दे २, ५५) ।

करडि पुं [करटिन्] हाथी, हस्ती (सुर २, ६६, मुपा ५०, १३६) ।

करडी ओ [दे, करटी] वायु-विशेष, 'अट्टमय करडीण' (ज २) ।

करडुयभत्त न [दे] श्राद्ध-विशेष (पिड) ।

करण न [करण] १ इन्द्रिय (सुर ४, २३६; कुमा) । २ आसन, पद्मासन वगैरह (कुमा) ।

३ अतिकरण, आश्रय (कुमा) । ४ कृति, क्रिया, विधान (ठा ३, ४, सुर ४, २४५) ।

५ कारक-विशेष, साधकतम (ठा ३, १; विसे १६३६) । ६ उपाधि, उपकरण (शोध ६६६) । ७ न्यायालय, न्याय-म्यल (उप पृ ११७) । ८ वीर्य-स्फुरण (ठा ३, १—पत्र १०६) । ९ ज्योति-शास्त्र प्रसिद्ध बब-वालवादि

करण (सुर २, १६५) । १० निमित्त, प्रयोजन (आचू १) । ११ जेल, कैदखाना (भवि) ।

१२ वि जो किया जाय वह (शोध २, भा ३) । १३ करनेवाला (कुमा) । °हिवड पुं [°धिपति] जेल का अध्यक्ष (भवि) ।

°साला ओ [°शाला] न्यायालय (दस० वृ० हारि० पत्र १०८, २) ।

करणया ओ [करणता] १ अनुष्ठान, क्रिया । २ संयमानुष्ठान (एया १, १—पत्र ५०) ।

करणसाला ओ [करणशाला] न्याय मन्दिर (दस ३, १ टी) ।

करणि ओ [दे] क्रिया, कर्म (अणु १३७) ।

करणि ओ [दे] १ रूप, आकार (दे २, ७, सुपा १०५, ४७५, पाप्र) । २ सादृश्य, समानता (अणु) । ३ अनुकरण, नकल करना (गठड) । ४ स्वीकार, अंगीकार (उप पृ ३८५) ।

करणिञ्ज देखो कर = कृ ।

करणिह वि [दे] समान, सदृश, 'मयणजमल-तोणीरकरणिल्लेण पयामथोरेण निरंतरेण च कञ्जुयलेण' (स ३१२), 'बंधुयकरणिल्लेण सहावास्सेण अहरेण' (स ३१२) ।

करणिअ देखो कर = कृ ।

करपत्त न [करपत्र] करपत्र, क्रकच (विपा १, ६) ।  
 करभ पु [करभ] ऊँट उट्ट (परह १, १, गड) ।  
 करभी स्त्री [करभी] १ उट्टी, स्त्री-ऊँट, ऊँटनी (पिट) । २ वान्य भग्ने का बड़ा पात्र (बृह ७ कन) । देखो करही ।  
 करम वि [दे] क्षीण, दुर्बल (दे ७, ६, पड) ।  
 करमड पु [करमन्द] फलवाला वृक्ष-विशेष (गड) ।  
 करमट्ट पु [करमट्ट] वृक्ष विशेष, करौदा (परण १—पत्र ३२) ।  
 करमरी स्त्री [दे] हठ-हूत स्त्री, बाँदी (दे २, १५, पड, गा ५२७, पात्र) ।  
 करय देखो करग (उप ७२८ टी, परण १, कुमा, उवा ७) । ३ पक्ष विशेष (परह १, १) ।  
 करयदी स्त्री [दे] मल्लिका, बेला का गाछ (दे २, १८) ।  
 करयर अक [करकराय्] 'कर-कर' आवाज करना । वक्र करयरत (पञ्च ६४, ३५) ।  
 कररुद्द पु [कररुद्र] छन्द-विशेष (पिग) ।  
 करलि } स्त्री [कदलि, ली] १ पताका ।  
 करली } २ हरिण की एक जाति । ३ हाथी का एक आभरण (हे १, १२०, कुमा) ।  
 करय पुन [दे करक] जल पात्र, पालिकरवाड नीर पाएड पुच्छिम्नो (मुपा २१४: ६३१) ।  
 करयदी स्त्री [करमन्दी] लता-विशेष, एक जात का पेड़ (दे, ८, ३५) ।  
 करयत्तिआ स्त्री [करपात्रिका] जल पात्र-विशेष (श्रा १२) ।  
 करवाल पुं [करवाल] खड्ग, तलवार (पात्र; मुपा ६०) ।  
 करविया स्त्री [दे करकिडा] पान पात्र-विशेष (मुपा ४८८) ।  
 करवीर पुं [करवीर] वृक्ष विशेष, कनेर का गाछ (गड) ।  
 करसी [दे] देखो कडसी (हे २, १७४) ।  
 करह पु [करभ] १ ऊँट, उट्ट (पञ्च ५६, ४४, पात्र; कुमा, मुपा ४२७) । २ सुगंधी द्रव्य विशेष (गड ६६८) ।

करहच न [करहच्च] छद विशेष (पिग) ।  
 करहाड पु [करहाट] वृक्ष विशेष, करहार, शिफा कन्द, मैनफल (गड) ।  
 करहाडय पुं [करहाटक] १ ऊपर देखो । २ देग-विशेष; 'करहाडयविसए वन्तऊरयसनिवे-सम्मि' (स २५३) ।  
 करही देखो करभी । ३ इस नाम का एक छन्द (पिग) । ४ मूह वि [रोह] ऊँट सवार, उट्टी पर सवारी करने वाला (महा) ।  
 कराइणी स्त्री [दे] शाल्मली वृक्ष, सेमर का पेड़ (दे २, १८) ।  
 करावल पु [करावल] न्वनाम द्यात एक राजा (ती ३७) ।  
 कराल वि [कराल] १ उन्नत, ऊँचा (अनु ५) । २ दन्तुरित, जिसका दाँत लम्बा और बाहर निकला हो वह (गड) । ३ भयानक, भयकर (कपू) । ४ फाड़नेवाला । ५ विकसित (से १० ४१) । ६ व्यवहित (से ११, ६६) । ७ वि इस नाम का विदेह-देश का राजा (धर्म १) ।  
 कराल सक [करालय्] १ फाड़ना, छिद्र करना । २ विकसित करना । करालेइ (से १०, ४१) ।  
 करालिअ वि [करालित्] १ दन्तुरित, लम्बा और बर्हिनिगत दाँतवाला (से १२, १०) । २ व्यवहित किया हुआ, अन्तरालवाला बनाया हुआ (से ११, ६६) । ३ भयकर बनाया हुआ (कपू) ।  
 करली स्त्री [दे] दतवन, दाँत शुद्ध करने का काष्ठ (दे २, १२) ।  
 करावण न [कारण] करवाना, बनवाना, निर्माण (मुपा ३०२, धम्म ८ टी) ।  
 कराविय वि [कारित] कराया हुआ (स ५६४, महा) ।  
 करि पु [करिन] हाथी, हन्ती (पात्र, प्रासू १६६) । १ धरणट्टाण न [धरणस्थान] हाथी को बाँधने का डोर—रज्जू, रस्सा (पात्र) । १ नाह पु [नाथ] १ ऐरावण, इन्द्र का हाथी । २ उत्तम हस्ती (मुपा १०६) । ३ वधण न [वन्धन] हाथी पकड़ने का गत्तं (पात्र) । ४ मयर पुं [मकर] जल-हन्ती (पात्र) ।  
 करिअ पु [करिक] एक महाग्रह (सुज २०) ।

करिअ } देखो कर = कृ ।  
 करिअव्य }  
 करिआ स्त्री [दे] मदिरा परोसने का पात्र (दे २, १४) ।  
 करिअव्यउ } (अप) देखो कायव्य (हे ४, करिअव्यउ } ४३८, कुमा, पि २५४) ।  
 करित देखो कर=कृ ।  
 करिणिया } स्त्री [करिणी] हन्तिनी, हथिनी  
 करिणी } (महा, पञ्च ८०, ५३, सुपा ४) ।  
 करिण पु [करिन] हाथी, हन्ती, 'रिड्डु करिणाहम । कुजाय । सभतजुवइगहणेण' (उप ६ टी) ।  
 करित्ता }  
 करित्ताण } देखो कर = कृ ।  
 करिट्टण }  
 करिमरी [दे] देखो करमरी (गा ५४, ५५) ।  
 करिल न [दे] १ वशाकुर, बाँस का कोपड़, रेतीली भूमि में उत्पन्न होनेवाला वृक्ष-विशेष, जिसे ऊँट खाते हैं (दे २, १०) । २ करैला, तरकारी-विशेष, 'थाणुपुरिसाइकुट्टुम्पलाइस-भियकरिअमसाई' (विसे २६३) । ३ अकुर, कन्दल (अनु) । ४ पुं करील वृक्ष, करील (पड) । ५ वि वशाकुर के समान, 'हाहा ते चय करिल्लपिययमावाहुसपणदुल्ललिय' (गड) ।  
 करिस देखो कड्ड = कृप् । करिसइ (हे ४, १८७) । वक्र करिसत (सुर १, २३०) । सक्क करिसित्ता (पि ५८२) ।  
 करिस पु [कर्प] १ आकर्षण, खींचाव । २ विलेखन, रेखा-करण । ३ मान विशेष, पल का चौथा हिस्सा (जो १) ।  
 करिस देखो करीस (हे १, १०१, पात्र) ।  
 करिसग वि [कर्पक] खेती करनेवाला, कृषी-वल (उत्त ३, आवम) ।  
 करिसग न [कर्पण] १ खींचाव, आकर्षण । २ चासना, खेती करना । ३ कृषि, खेती (परह १, १) ।  
 करिसय देखो करिसग (मुपा २, २६०, सुर २, ७७) ।  
 करिसावण पुन [कार्पाण] मिक्का-विशेष (विसे ५०६, अणु) ।  
 करिसिड (श्री) वि [कर्षित] १ आकर्षित । २ चासा हुआ, खेती किया हुआ (हेका ३३१) ।

करिसिय वि [कृशित] दुर्वन किया हुआ (नृम १, ३)।

करीर पुं [करीर] वृद्ध-विशेष करीर. करील (उप ७२८ टी, धा १६, प्रासू ६२)।

करीस पु [करीष] जलाने के लिए मुखाया हुआ गोबर, बंडा, गोइडा (हे १, १०१)।

करुण देखो क्लुण (स्वप्न ५३, मुपा २१६), 'उज्ज्वल ज्यान्माव दक्खिण कल्लण्य च भ्रामुपइ' (गठड)।

करुणा स्त्री [करुणा] दया, हमारे के दुःख को दूर करने की इच्छा (गठड, कुमा)।

करुणाइय वि [करुणायित] जिसपर करुणा की गई हो वह (गठड)।

करुणि वि [करुणिण] करुणा करनेवाला, दयालु (सप)।

करे सक्त [कारय्] कराना। करेइ (प्राकृ ६०)।

करेअव्व } देखो कर = कृ।  
करेत }

करेडु पुं [दे] इज्जाम, गिरगिट, नट (दे २, ५)।

करेणु पुं [करेणु] १ हस्ती, हाथी। २ बनेर का गाय, 'एमो करेणु' (हे २, ११६)। ३

स्त्री हस्तिनी हथिनी (हे २, ११६, शाया १, १, मुर ८, १३३)। ४ वृत्ता स्त्री [वृत्ता]

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एक स्त्री (उत्त १३)। ५ सेणा स्त्री [सेना] देखो पूर्वोक्त अर्थ (उत्त १३)।

करेणुआ स्त्री [करेणु] हस्तिनी, हथिनी (पाम्र, महा)।

करेमाण } देखो कर = कृ।  
करेअव्व }

करेवाहिय वि [करवाधित] गज-कर से पोषित, महसूल से हैरात (श्रीप)।

करोड पुं [दे] १ नारिकेल, नारियन। २ काक, कौआ। ३ वृषभ, बैल (दे २, ५४)।

करोडग पु [दे] पात्र-विशेष, कटोरा (निचू १)।

करोडि स्त्री [करोटि] सिर की हड्डी (सुम, २, २९)।

करोडिय पुं [करोटिक] कापालिक, निजुक-विशेष (शाया १, ८—पत्र १५०)।

करोडिया } स्त्री [करोटिका, °टी] १ कुडा,  
करोडी } बड़े मुँह का एक पात्र, कान्य-

पात्र-विशेष (अणु, दे ७, १५, पाम्र)। २ न्यूनिका, पानदान (शाया १, १ टी—पत्र ४३)। ३ मिट्टी का एक तरह का पात्र (श्रीप)। ४ कपाल, भिक्षा-पात्र (शाया १, ८)। ५ परोसने का एक उपकरण (दे, २, ३८)।

करोडी स्त्री [दे] एक प्रकार की चींटी, छुद-जन्तु विशेष (दे २, ३)।

करोडी स्त्री [दे] मुरदा, शव (कुप्र १००)।

कल सक्त [कल्य्] १ नव्या करना। २ आवाज करना। ३ जानना। ४ पहिचानना। ५ सन्ध करना। वनइ (हे ५, २५६, पड्)। कलयति (दिने २०२६)। भवि धनइत्तं (पि ५३३)। नमं वविअए (दिने २०२६)। वरु कलयंत (मुपा ४)। वरु कल्लज्जत (मुपा ६४)। संक कल्लिअण, कल्लिअ (महाअ भनि १८२)। क कल्लिअण, कल्लिअ (मुपा ६२२, पि ६१)।

कल वि [कल] १ मधुर, मनोहर (पाम्र)। २ पुं अत्यक्त मधुर शब्द (शाया १, १६)। ३ कोनाहल, धलवल (चद १६)। ४ वर्दम, कीचड, बादो (भत १३०)। ५ धान्य विशेष, गोल चना, मटर (ठा ५, =)। ६ कंठी स्त्री [कण्ठी] कोविना, कोयल (दे २, ३०, कपू)। ७ मज्जुल वि [मज्जुल] शब्द से मधुर (पाम्र)। ८ यंठ पु [कण्ठ] कोकिल, कोयल (जुना)। ९ यंठी देखो कण्ठी (मुर ४, ४८)। १० इम पुं [इस] एक पक्षी, राज-हंस (वप्प; गठड)।

कलक पु [कलक] १ दाग, दोष (प्रासू ६४)। २ लान्घन, चिह्न (कुमा, गठड)।

कलक नक [कलक्य्] कलकित करना। वनंकाइ (भवि)। क. कलकियव्व (मुपा ४८८, ५८१)।

कलक पु [दे] १ बाँस, वंश (दे २, ८)। २ बाँस की बनाई हुई बाइ (शाया १, १८)।

कलकण न [कलकण] कलकित करना (पव ८)।

कलकल वि [कलकल] असमजम, भयुभ (श्रीप, संया)।

कलकलीभागि वि [कलकलीभागिन्] वृ ख-व्याकुल (सुप्र २, २, ८१, ८३)।

कलकलीभाव पु [कलकलीभाव] १ दुःख से व्याकुलता। २ समार-परिभ्रमण (आचा २, १६, १२)।

कलकवई स्त्री [दे] वृत्ति, बाइ, कांटे आदि से परिच्छिन्न स्थान-परिधि (दे २, २४)।

कलकिय वि [कलकिय] कलकित, दागी (हे ४, ४३८)।

कलकिय वि [कलकिय] कलकवाला, दागी (कान. पि ५६५)।

कलतर न [कलानर] व्याज, सूद (कुप्र ३५५)।

कलड पु [कलड] १ कुएड, कुएडा, रंग-पात्र (उवा)। २ जाति से आर्य एक प्रकार के मनुष्य (ठा ६—पत्र ३५८)।

कलड पु [कदम्ब] १ वृद्ध-विशेष, नीप, कदम का गाय (हे १, ३०, २२२, गा ३७, कपू)। २ चौर न [चौर] शत्रु विशेष (विपा १, ६—पत्र ६६)। ३ चौरिया स्त्री [चौरिका] तुण-विशेष, जिसका अग्र भाग अति तीक्ष्ण होता है (जीव ३)। ४ वानुया स्त्री [वानुया] १ कदम्ब के पुष्प के आकार-वाली घुली। २ नरक की नदी, 'कलववा-नुयाए वडुपुव्वो गणतसो' (उत्त १६)।

कलंयु स्त्री [दे] वल्ली विशेष, नानिका (दे २, ३)।

कलंयुअ न [कदम्बक] कदम्ब वृक्ष का पुष्प, 'वागहयकलडुअ पिअ समुसुनियरोमकूवे' (वप्प)।

कलंयुआ [दे] देखो कलंयु (पण १, मुज ४)।

कलंयुआ स्त्री [कलंयुआ] १ कदम्ब पुष्प के समान मास-गोलक। २ एक गाव का नाम, जहाँ पर भगवान् महावीर को कालहस्ती ने सनाया था (राज)।

कलंयुगा स्त्री [कलंयुगा] जल में होनेवाली वनस्पति की एक जाति (सुप्र २, ३, १८)।

कलंयुय पु [कदम्बक] कदम्ब-वृक्ष (सुज १६)।

कलकल पु [कलकल] १ कोलाहल, कल-कलरव (आ १४)। २ ध्यक्त शब्द, स्पष्ट



आवाज (भग ६ ३३- राय) । ३ चूना आदि से मिश्रित जल (त्रिपा १, ६) ।  
 कलकल अच् [कलकलाय्] 'कल कल' आवाज करना । वक्त्र कलकलत, कलकलिन, कलकलंत, कलकलमाण (परह १, १, ३, श्रौत) ।  
 कलकलिन न [कलकलिन] कोलाहल करना (दि ६, ३६) ।  
 कलकलिन वि [कलकलिन] कलकल शब्द ने युक्त (सिंहि ६६८) ।  
 कलकल्य देखो कडकल्य = कटाव (गा ७०२) ।  
 कलचुलि पु [कलचुलि] १ ध्वनि विशेष । २ इस नाम का एक क्षयिष-वध (पिग) ।  
 कलण देखो मरग, 'तानुवि कलणेमु हानु मुहसकप्पो' (अच्छु ८२) ।  
 कलण न [कलण] १ शब्द, आवाज । २ चन्धान, गिनती (विसे २०२८) । ३ वारण करना (मुपा २७) । ४ जानना (मुपा १६) । ५ प्राप्ति, ग्रहण, 'जुत वा सयनकनाकलण रयगायरमुअन्स' (आ १६) ।  
 कलणा स्त्री [कलना] १ कृति, वरण, 'जुएणं वदप्प-दप्प णिहुवराकलणादं दलित्तं कुण्ठा' (कप्पु) । २ वारण करना, लगाना, 'मज्जमेहे सिरिवडधकनणरा' (कप्पु) ।  
 कलणज्ज देखो मल = कलय् ।  
 कलत्त न [कलत्त] स्त्री, भार्या (प्राप् ७६) ।  
 कलद्योय देखो कलहोय (श्रीप) ।  
 कलभ पुत्री [कलभ] १ हाथी का बच्चा (गाया १, १) । २ बच्चा, बालक 'उवमानु अपज्जेत्तेभन्नभर्त्तावहानमूरुअर्थे' (हे १, ७) ।  
 कलभिया स्त्री [कलभिका] हाथी का स्त्री पत्नी (गाया १, १—पद्य ६३) ।  
 कलम पुं [दि कलम] १ चोर, तस्कर (दि २, १०, पात्र; भावा) । २ एक प्रकार का उत्तम चावन (उवा जं २, पात्र) ।  
 कलमल पु [कलमल] १ पेट का मल (ठा ३, ३) । २ वि दुर्गन्धि, दुर्गन्धवाला (उप ८३३) ।  
 कलमल पुं [दि] १ मदन-वेदन (सप्त ५७) । २ कंपन, धरणराहट, घृणा; 'अमुईए अट्ठीएणं नोणियकिमिजालपूइमसाण । नामपि चित्तिं सनु कनमनयं जणइ हिमयम्मि' (मन ३३) ।  
 कलय देखो काल्य (हे १, ६७) ।

कलय पुं [दि] १ अजुं वृत्त । २ सोनार, सुवर्णकार (दि २, ५४) ।  
 कलय पुं [कलाड] सोनार, सुवर्णकार (पट्) ।  
 कलयदि वि [दि] १ प्रसिद्ध, विख्यात । २ स्त्री वृत्त-विशेष, पाठ्य, पाटल (दि २, ५८) ।  
 कलयज्जल न [दि] श्रोत्र-नेत्र, होठ पर लगाया जाता लेप-विशेष (भवि) ।  
 कलयल देखो कलमल (हे २, २००, पात्र; गा ५३५) ।  
 कलयलिरि वि [कलकलाप्रित्] कलकल करने-वाना (ववा ६६) ।  
 कलरुद्दणी स्त्री [कलरुद्दणी] इस नाम का छन्द (पिग) ।  
 कलल न [कलल] १ वीर्य और शोणित का मधुदाय, 'पाडज्जति रडता सुतत्तवुनवसनिम कलल' (पउम ११८, ८), 'वसकललसंभ-सोणिय' (पउम ३६, ५८) । २ गर्म-वेदन चर्म । ३ गर्म के अवयव रूप रत विकार (गड्ड) । ४ काँदी, कीचड़, कर्म (गड्ड) ।  
 कललिय वि [कललिन] कर्मित, कीचड़ाला किया दृशा; 'अएणोएणकलहविअलियदेसरकी-लालकलनियदारा' (गड्ड) ।  
 कलविक पु [कलविद्ध] पत्ति विशेष, चटक, गोरिया पत्ती, नौरैया (पात्र गड्ड) ।  
 कलवृ स्त्री [दि] तुम्बी पात्र (दि २, १२, पट्) ।  
 कलस पु [कलस] १ कलय, घडा; (उवा; गाया १, १) । २ कलकक छन्द का एक नेद, छन्द-विशेष (पिग) ।  
 कलस पुन [कलग] १ एक देव विमान । (देवन् १४०) । २ वाद्य-विशेष (राय ५० टी) ।  
 कलसिया स्त्री [कलसिका] १ छोटा घडा (अणु) । २ वाद्य विशेष (आचू १) ।  
 कलह पुं [कलह] क्लेश, भगडा (उव, श्रौप) ।  
 कलह देखो कलभ (उव; पउम ७८, २८) ।  
 कलह न [दि] तलवार की म्यान (दि २, ५, पात्र) ।  
 कलह अक [कलहाय्] भगडा करना, लडाई करना । वक्त्र कलहव, कलहमाण (पउम २८, ४, मुपा ११, २३३, ५४६) ।  
 कलहण न [कलहन] भगडा करना (उव) ।

कलहाय देखो कलह = कलहाय् । कलहायदि (शो) (नाट) । वक्त्र कलहायंत (गा ६०) ।  
 कलहाडअ वि [कलहायित्] कलहवाना, भगडाखोर (पात्र) ।  
 कलहि वि [कलहिन] भगडाखोर (दि ५, ५४) ।  
 कलहोय न [कलघौन] १ सुवर्ण, सोना (सण) । २ काँदी, रजत (गड्ड, परह १, ४, पात्र) ।  
 कला स्त्री [कला] १ अश, भाग, मात्रा (अनु ४) । २ समय का सूक्ष्म भाग (विसे २०२८) । ३ चन्द्रमा का सोलहवाँ हिस्सा (प्राप् ६५) । ४ कला, विद्या, विज्ञान (कप्प, राय; प्राप् ११२) । पुरुष योग्य कला के मुख्य बहतर और स्त्री-योग्य कला के मुख्य चौसठ नेद हैं, 'वावत्तरी कला' (अणु), 'वावत्तिकापडियावि पुत्तिसा' (प्राप् १२६), 'वज्जसुत्तिकापडिया' (खाया १, ३) । पुत्त-कला ये हैं—१ लिपि ज्ञान । २ अकण्णित । ३ चित्र कला । ४ नाट्यकला । ५ गान, गाना । ६ वाद्य बजाना । ७ स्वर गत (पड्ज, ऋपम वगैरह स्वर्ग का ज्ञान) । ८ पुत्त-गत (मृदंग, मुरजादि विशेष वाद्य का ज्ञान) । ९ समताल (संगीत के ताल का ज्ञान) । १० धूर्त कला । ११ जनवाद (लोगों के साथ आलाप सलाप करने की विधि) । १२ पासे का खेल । १३ श्रष्टापद (चौपाठ खेलने की रीति) । १४ शीघ्र कवित्व । १५ दक-भुक्तिका (पृथक्करण-विद्या) । १६ पाक कला । १७ पान-विधि (जलपान के गुण दोष का ज्ञान) । १८ वस्त्र-विधि (वस्त्र की सजावट की रीति) । १९ विलेपन विधि । २० शयन-विधि । २१ आर्या (छन्द विशेष) बनाने की रीति । २२ प्रहेलिका (विनोद के लिए पहेलिया—गूढाशय पद्य) । २३ भागविका (छन्द विशेष) । २४ गाय (छन्द विशेष) । २५ गीति (छन्द-विशेष) । २६ श्लोक (अनुष्टुप् छन्द) । २७ हिरण्य-युक्ति (चाँदी के आभूषण की यथास्थान योजना) । २८ सुवर्ण-युक्ति । २९ चूर्ण-युक्ति (मुगन्धि पदार्थ बनाने की रीति) । ३० आभरण-विधि (आभूषणों की सजावट) । ३१ तरुणी परिकर्म (स्त्री को सुन्दर बनाने

की रीति) । ३२ स्त्री-लक्षण (स्त्री के शुभाशुभ चिन्हों का परिज्ञान) । ३३ पुच्छ लक्षण । ३४ अश्व लक्षण । ३५ गज-लक्षण । ३६ गो-लक्षण । ३७ कुक्कुट-लक्षण । ३८ छत्र-लक्षण । ३९ दण्ड-लक्षण । ४० अस्ति लक्षण । ४१ मणि-लक्षण (रत्न-परीक्षा) । ४२ काकणि-लक्षण (रत्न विशेष की परीक्षा) । ४३ वास्तुविद्या (गृह बनाने और सजाने की रीति) । ४४ स्वन्वावार मान (नैत्य परि-माण) । ४५ नगर-मान । ४६ चार (ग्रह-चार का परिज्ञान) । ४७ प्रतिचार (ग्रहों के वक्र-गमन वगैरह का ज्ञान, अथवा रोगप्रतीकार ज्ञान) । ४८ ब्यूह (चैन्य रचना) । ४९ प्रतिब्यूह (प्रतिद्वन्द्वि ब्यूह) । ५० चक्र ब्यूह । ५१ गण्ड-ब्यूह । ५२ शकट ब्यूह । ५३ युद्ध (मल्ल-युद्ध) । ५४ नियुद्ध । ५५ युद्धातियुद्ध (खड्गादि गन्ध से युद्ध) । ५६ दृष्टि युद्ध । ५७ मुष्टि-युद्ध । ५८ बाहु युद्ध । ५९ लता युद्ध । ६० ह्यु-शास्त्र (दिव्यान्न-मूचक शास्त्र) । ६१ त्वर-प्रमात (वड्ग शिवा शास्त्र) । ६२ धनुर्वेद । ६३ हिरण्य पाक (चाँदी बनाने की रीति) । ६४ सुवर्ण पाक । ६५ सूत्रक्रीडा (एक ही सूत को अनेक प्रकार कर दिखाना) । ६६ वस्त्र-क्रीडा । ६७ नानिका खेल (यूत-विशेष) । ६८ पत्र-च्छेद्य (अनेक पत्रों में अशुभ पत्र का छेदन, हन्त-नाश) । ६९ कट-च्छेद्य (कट की तरह क्रम में छेद करने का ज्ञान) । ७० सजीव (मरी हुई धातु को फिर अमल बनाना) । ७१ निर्जीव (धातु-मारण, रसायण) । ७२ शकुन-न्त (शकुन-शास्त्र) । (ज २ टी: सम ८३) । गुरु पु [गुरु] कलाचार्य, विद्याप्यापक, शिक्षक (सुपा २५) । यरिय पु [चार्य] देवो पूर्वोक्त अर्थ (राया १, १) । वई स्त्री [वती] १ कलावानी स्त्री । २ एक पतिव्रता स्त्री (उप ७३६, पठि) । सवण न [सवर्ण] संख्या-विशेष (ठा १०) ।

कलाडआ स्त्री [कलाचिका] प्रकीर्ण, जोनी में लेकर मणित्रय तक का हस्तावयव (पात्र) । कलाय पुं [कलाद] सोनार, सुवर्णकार (परह १, २, राया १, ८) ।

कलाय पु [कलाय] धान्य विशेष, गोल चना, मटर (ठा ३, ५, अनु ५) ।

कलाव पुं [कलाप] १ मसूह, जत्या (हे १, २३१) । २ मयूर-पिच्छ (सुपा ४८) । ३ शरवि, तूण, जिममे बाण रखे जाते हैं (दे २, १५) । ४ कण्ठ का आभूषण (श्रीप) । कलावग न [कलापक] १ चार श्लोकों की एक वाक्यता । २ श्रौवा का एक आभरण (परह ३, ५) ।

कलावय न [कलापक] चार पत्रों की एक वाक्यता (सम्मत १८७) ।

कलावि पुत्री [कलापिन] मयूर, मोर (उप ७२८ टी) ।

कलि पु [कलि] एक नरकावास (देवेन्द्र २६) ।

कलि पु [कलि] १ कलह, झगडा (कुमा, प्रासू ६४) । २ युग-विशेष, कलि युग (उप ८३३) । ३ पर्वत विशेष (ती ५४) । ४ प्रथम भेद (निचू १५) । ५ एक, अश्ले (सूत्र १, २, २, भग १८, ४) । ६ दुष्ट पुरुष, 'दुष्टो बली' (पात्र) । ७ ओग, ओय पु [ओज] युग्म राशि विशेष (भग १८, ४, ठा ४, ३) । ८ ओयकडजुम्म पु [ओज-कृतयुग्म] युग्म-राशि-विशेष (भग ३४, १) । ९ ओयकार्कओय पु [ओजकलयोज] युग्म-राशि विशेष (भग ३४, १) । १० ओजते-ओय पु [ओजत्रयोज] युग्म राशि विशेष (भा ३४, १) । ११ ओयदावरजुम्म पु [ओजद्वारपरयुग्म] युग्म-राशि-विशेष (भग ३४, १) । १२ कुड न [कुण्ड] तीर्थ-विशेष (ती १५) । १३ जुग न [युग] कलि-युग (ती २१) ।

कलि पु [द] शयु, दुश्मन (दे २, २) ।

कलिअ वि [कलित्र] १ युक्त, सहित (परह १, २) । २ प्राप्त, गृहीत । ३ ज्ञात, विदित (दे २ ५६, पात्र) ।

कलिअ देवो कल = कलय ।

कलिअ पु [दे] १ नकुल, न्यूला, नेवना । २ वि गर्वित, गर्व युक्त (दे २, ५६) ।

कलिआ स्त्री [दे] सखी, चहेली (दे २, ५६) । कलिआ स्त्री [कलिका] अविकसित पुष्प, कली (पात्र, गा ४४२) ।

कलिा पु [कलिङ्ग] १ देश विशेष, यह देश उड़ीसा से दक्षिण की ओर गोदावरी के मुहाने पर है (परम ६८, ६७, श्लो ३० भा,

प्रासू ६०) । २ कलिङ्ग देश का राजा (पिंग) । कलिग पु [कलिङ्ग] भगवान् आदिनाय का एक पुत्र (ती १४) ।

कलिच देवो कलिच (गा ७७०) ।

कलिञ्ज पु [कलिञ्ज] कट, चटाई (निचू १७) ।

कलिज न [दे] छोटी लकड़ी (दे २, ११) ।

कलित्र पुन [कलित्र] १ वाँस का पात्र-विशेष, 'कलित्रो वसकप्यरो' (गच्छ २) । २ सूखी लकड़ी (भग ८, ३) ।

कलित्त न [कटित्र] कमर पर पहना जाता एक प्रकार का चर्म मय कवच (राया १, १, श्रीप) ।

कलिम न [दे] कमल, पद्म (हे २, ६) ।

कलिमल देवो कलमल = कलकल (तदु ४१) ।

कलिल वि [कलिल] गहन, घना, दुर्मेय (पात्र) ।

कलुण वि [करुण] १ दीन, दया-जनक, कृपा-पात्र (हे १, २५४, प्रासू १२६, सुर २, २२६) । २ पु साहित्य शास्त्र-प्रसिद्ध नव रसों में एक रस (श्राणु) ।

कलुणा देवो करुणा (राज) ।

कलुस वि [कलुप] १ मलिन, अस्वच्छ, 'कलिकलुस' (विपा १, १, पात्र) । २ न पाप, दोष, मैल (स १३२, पात्र) ।

कलुसिअ वि [कलुपित] पाप-ग्रस्त, मलिन (से १०, ५, गठ) ।

कलुसीक्य वि [कलुपीकृत] मलिन किया हुआ (उव) ।

कलेर पु [दे] १ कंकाल, अस्थि-पण्डर । २ वि कराल, भयानक (दे २, ५३) ।

कलेवर न [कलेवर] शरीर, देह (भाच ४८, पिंग) ।

कलेसुय न [कलेसुक] तृण विशेष (सूत्र २, २) ।

कलोवाइ स्त्री [दे] पात्र-विशेष (भाचा २, १, २, १) ।

कल न [कलय] १ कल, गया हुआ या आगामी दिन (पात्र, राया १, १, दे ८, ६७) । २ शब्द, आवाज । ३ सख्या, गिनती (विसे ३४४२) । ४ आरोग्य, निरोगता; 'कल्ल किलारुग' (विसे ३४३६) । ५ प्रमात, मुक्क (श्राणु) । ६ वि निरोग, रोग रहित

(ज ३, ३, दे ८, ६५) । ७ वि. दज, चतुर  
(दे ८, ६५) ।

कह्यवत्त पु [कव्यवत्त] कलेवा, प्रातर्नाजन,  
जन-मान (न्यन ६० नाट) ।

कह्यवाल पु [कव्यपाल] कलवार, शराव  
वेचनेवाला (मोह ६०) ।

कह्यविथ वि [दे] ? तीमिद, आद्रित । २  
विन्तारित, फेलाया ह्या (दे २, १८) ।

कह्या स्त्री [दे] नय, दाह (दे २ ०) ।

कह्याकट्टि श्र [कव्याकट्टि] ? प्रतिदिन,  
कह्याकट्टि हर रोज (विषा १, २, राया १,  
१८) । २ प्रति प्रमात, रोज मुवह (उवा,  
प्राप) ।

कह्याण न [कव्याण] मुवण (मिरि ३७३) ।

कह्याण पुन [कव्याण] ? मुख, मगल, धेम,  
'गुणद्वारापरिरामे सते जीवाण सयनकल्याणा'  
(उप ६००, महा, प्राप् १६६) । २ निर्वाण,  
मोक्ष (विने ३४४०) । ३ विवाह, लग्न  
(वनु) । ४ जिन भगवान् का पूर्व भव से  
व्यवन, जन्म, बीजा, केवन ज्ञान तथा मोक्ष-  
प्राप्ति रूप अत्रसर, 'देव महाकल्याणा  
सर्वेति निराण होति शिथमेण' (पचा ६) ।

५ समृद्धि, वैभव (कप्प) । ६ वृद्ध-विशेष  
(पण १) । ७ नर विशेष (पत्र) । ८ देश-  
विशेष । ९ नार विशेष: 'कल्याणदेवे  
कल्याणनये सन्तरो राम राया जिए-  
नतो ह्या' (ती ५१) । १० पुण्य,  
शून कर्म (आचा) । ११ वि हित-कारक,  
मुख-कारक (जीव ३, उत ३) । १२ कडय न  
[कृतक] नगर-विशेष (ती) । १३ कारि वि  
[कारिन्] मुवावट्ट, मंगल-कारक (राया  
१, १६) ।

कह्याणि वि [कव्याणि] कल्याण-प्राप्त  
(राज) ।

कह्याणी स्त्री [कव्याणी] ? कल्याण करने-  
वाली स्त्री (गड) । २ दो वर्ष की बछिया  
(उत्तर १०३) ।

कह्याल पुं [कव्याल] कल्याण, दाह वेचने-  
वाला (अणु; श्राव ६) ।

कह्ये श्र [कव्ये] कल दिन, कल को (गा  
५०२) ।

कल्लुग पुं [कल्लुक] द्वीन्द्रिय जीव विशेष,  
कीट की एक जाति (जीव ३) ।

कल्लुय पुं [कल्लुक] द्वीन्द्रिय जन्तु की एक  
जाति (पण १—पत्र ४४) ।

कल्लुरिया [दे] देखो कुहरिया (राज) ।  
कट्टेउय पुंन [दे] कनेया, प्रातराश (श्रीप  
४६/टी) ।

कट्टेउय पुं [दे] दमनीय वैन, माड (आचा  
२, ८, २) ।

कट्टेडिया [दे] देखो कट्टेडो (नाट) ।

कट्टेल पु [कट्टेल] तरंग, ऊनि (श्रीप;  
प्राप् १२८) ।

कट्टेल वि [दे, कट्टेल] गड्ड दुग्मन (द  
२, ०) ।

कट्टेलिणी स्त्री [कट्टेलिनी] नदी (कप्प) ।

कट्टेल न [कट्टेल] नफेह कमल (पण  
१, दे २ ७६) ।

कट्टे देखो कट्टि (गा ८००) ।

कट्टेड पुं [दे] बत्सतर, बछडा (दे २, ६) ।

कट्टेडो स्त्री [दे] कट्टेउरी, बछिया (दे  
२, ६) ।

कव अक [कु] प्रावाज करना, शब्द करना ।  
कवइ (हे ४, २३३) ।

कवडय वि [कवचित] कल्याणवाला, बर्तित  
(पण ७२, ७१, श्रीप) ।

कवंध देखो कवंध (पण १, ३ महा, गड्ड) ।  
कवग्ग पु [कवग्ग] 'क' से 'ङ' तक के पांच  
अक्षर (वर्गवि १४) ।

कवचित्थ देखो कवडय (मिरि १३१६) ।

कवचिया स्त्री [कवचिका] कलाचिया,  
प्रकोष्ठ (राज) ।

कवट्टिथ वि [कवट्टित] पीडित, हेगन किया  
ह्या (हे १, १२४) ।

कवड न [कपट] नाया, छप, शाब्द (पण-  
सुर ४, १२१) ।

कवडि देखो कवडि, 'तो मण्ड कवडिजकडो  
अण्णवि त पुच्छसे ण्य' (मुपा १४०) ।

कवडु पुं [कपट] बडी कौडी, बराटिका (दे  
११०, जो १५) ।

कवडि पु [कपटिन्] ? यज विशेष (मुपा  
५१२) । २ महादेव, शिव (कुमा) ।

कवडिया स्त्री [कपटिका] कौडी, बराटिका  
(मुपा १२, ५४५) ।

कवग्ग वि [कपु] कौन ? (पण ७२, ८  
कुमा) ।

कवग्ग पुंन [कपु] वर्ण, कवग्ग (विषा १,  
२, पण २४, ३१, पाप) ।

कवग्ग न [दे] यदन्तवि विशेष, भूमिच्छ  
(दे २, ३) ।

कवग्गी स्त्री [कवग्गी] कल्याण, घम्मिल (कुमा  
देगी १८३) ।

कवग्ग न [कवग्ग] प्रसना, हृदय-मज्जा ।  
कवग्ग (गड्ड) । कर्म कवग्गिज (गड्ड) ।  
कवग्ग. कवग्गिजत (मुपा ७०) । कंठ. कव-  
लिज्ज (गड्ड) ।

कवग्ग पु [कवग्ग] कवग्ग, गज (पत्र ४,  
श्रीप) ।

कवग्ग न [कवग्ग] प्रसना, नारा (काप  
१७०-मुपा ४७८) ।

कवग्गि वि [कवग्गि] क्विन्न, नथित  
(पाप; सुर २, १४६, मुपा १०१, ३१६) ।

कवग्गि स्त्री [दे] ज्ञान का एक चरण  
(आप ८) ।

कवग्ग पु [दे] गेहे का कथाह (सूम १, ५,  
१, १५) ।

कवग्गि स्त्री [दे] पात्र विशेष, गुड वर्गह  
कवग्गी पकाने का भाजन, कवाह, कवाह,  
'उपन्तेण य गिन्हे कानिनाए कवग्गिभूयाए'  
(संजा १२० विषा १, ३) ।

कवग्ग पुन [कपाट] कवाड, कवाडो  
कवाड (गड्ड, श्रीप, गा ६२०) ।

कवग्ग न [कपाल] ? खोन्डी, सिर की हड्डी,  
'कवलिमकवालो' (मुपा १५२) । २ घट-  
कर्पूर, निज्जा-मान (आचा हे १, २३१) ।

कवग्ग पुं [दे] एक प्रकार का लूता, अर्धजहु  
(दे २, ५) ।

कवि देखो डक = कवि (सुर १, २४६) ।

कवि पुं [कवि] ? कविता करनेवाला (सुर  
१, १८; मुपा ५६२, प्राप् ६३) । २ शूद्र,  
ग्रह-विशेष (मुपा ५६२) । ३ त [त्य]  
कविता, कवित्त (सुर १, ४२) । देखो कइ =  
कवि ।

कविअ न [कविक] लगाम (पाप्र, मुना २१३)।

कविजल देवो कविजल (आना २)।

कविकच्छु } देवो कइरुच्छु (परह २, ५;  
कविगच्छु } आ १४, दे १, २६, जीव ३)।

कविट्ट देवो कट्टय (परण १ दे ३, ४५)।

कविड न [दे] घर का पिछला भागन (दे २, ६)।

कवित्य देवो कट्टय (उप ३०३१ टी)।

कवियच्छु देवो कइरुच्छु (स २३६)।

कविल पु [दे] धान, पुता (दे २, ६, पाप्र)।

कविल पुं [कपिल] १ वरुण-विशेष, भूरा रंग, तामटा वरुण (उवा २)। २ पनि-विशेष (परह १, ८)। ३ सारु मत्त का प्रसक्तं मुनि-विशेष (भावम, शौच)। ४ एष ब्राह्मण महर्षि (उत्त ८)। ५ इस नामका एक वानु-देव (शाया १, १६)। ६ राहु का पुत्र-विशेष (गुज २०)। ७ वि भूरा रंग का, मटमैला रंग का (पटम ६, ७०, से ७, २२)। १ श्री [°] एक ब्राह्मण का नाम (मानू)।

कविलडोला श्री [दे कपिलडोला] धुद वनु-विशेष, जिसको उजराती में 'सटमावडी' कहते हैं (नी १८)।

कविलाम देवो कइलाम, 'तेनुधि हवेअ यकि-लाममेरिगिरिस्सिना कूटा' (उप)।

कविलिअ वि [कपिलित] कपिल रगनाना किया हुआ, भूरे रंग में रंगित (गठड)।

कविल्लुय न [दे] पाप-विशेष, बडाही (वृह ५)।

कविम पुं [कपिग] १ वरुण-विशेष, काना-पीना -ग, वादामी, कृष्ण-पीन-निश्चित वरुण। २ वि कपिश वरुणवाला (पाप्र, गठड)।

कविम न [दे] दाह, मय, मदिरा (दे २, २)।

कविसा श्री [दे] अर्धजहुा, एक प्रकार का जूवा (दे २, ५)।

कविमायण पुन [कपिशायन] मय विशेष, उट का दाह (परण १७—पत्र ५३२)।

कविसीसग } पुन [कपिशीर्षक] प्राकार  
कविसीसय } का अग्र-भाग (शौच, शाया १, १, राय)।

कविहसिय पुन [कपिहसिव] आकाश में

अन्मात् होनेवाली भयंकर आवाज करती जवाला (अणु १२०)।

कवेल्लुय देवो कविल्लुय (ठा ८—पत्र ४१७)।

स्वोड देवो रुरोय (पिड २१७)।

कयोय पुं [कपोत] १ क्यूतर, पारावत, पगेवा (गठड: विपा १, ७)। २ न्नेच्छ देव-विशेष (पटम २७, ७)। २ न कूप्पाएड, गोहवा (मा १५)।

स्वोल पुं [कपोल] गान, गरुड (सुर ३, १२०; हे ४, ६५)।

कयोणण (मा) वि [कडुण्ण] घोडा गरम (प्राह १)।

कच्य न [कच्य] १ कविता, कवित्य (ठा ४, ४, प्राप् १)। २ पु ग्रह विशेष, शुक (सुर ३ ५३)। ३ वि. वरुणोय, रलापनीय (हे २, ७६)। ४ इत्त वि [°वन्] काप्यवाला (हे २, ११६)।

कच्य न [कच्य] भास (सुर ३, ५३)।

कच्यट्ट पु [दे] बालक, बया (गच्छ ३, १६)।

कच्यड देवो कच्यड (भवि)।

कच्य श्री [कच्य] माया (सूय० चू० पत्र १७५ नूय गा० ३४५ अघ्या० ६ गा० १)।

कच्यड पु [दे] दक्षिण हस्त, दाहिना हाथ (दे २, १०)।

कच्यडिअ वि [दे] गाँवर उठानेवाला, बहंगो में मान होनेवाला (मुप्र १२१)।

कच्यय पु [कच्ययाड] १ राक्षस, पिशाच (पउम ७, १०, दे २, १५, स २१३)। २ वि कच्चा माग छानेवाला (पटम २२, ३५)। ३ माग छानेवाला (पाप्र)।

कच्याल न [दे] १ कर्म-स्थान, कार्यालय। २ गृह, घर (दे २, ५२)।

कच्य नक् [कच्य] १ ठार मारना। २ कमाना, धिसना। ३ मलिन परना। कसंति (परण १३)। कच्य कमिज्जमाण (मुपा ६१५)।

कच्य पु [कच्य] चर्म-पट्टि, चातुक (परह १, ३, शाया १, २, स २८७)।

कच्य पु [कच्य] १ कमीटी, कप-क्रिया, 'ताव-च्छेयकमेहि नुद पांसइ मुवप्रमुप्पभ' (मुपा ३८६)। २ कसीटी का पत्थर (पाप्र)। ३ वि. हिसक, मार डालनेवाला, ठार मारने-

वाला (ठा ४, १)। ४ पुन. समार, भव, जगत् (उत्त ४)। ५ न. कर्म, कर्म-मूढल; 'कम्म कस भवो वा कस' (विने १२२८)।

'पट्ट, वट्ट पु [°पट्ट] कमीटी का पत्थर (अणु: गा ६२६, सुर २, २४)। १ हिं पुत्री [°हिं] नर्ग की एक जाति (परण १)।

कसई श्री [दे] फल विशेष, अरण्यकारी वनस्पति का फल (दे २, ६)।

कसट (पे) देवो कट्ट = कट्ट (हे ४, ३१, प्राप्र)।

कसट्ट पु [दे] गतवार, कूटा (शौच ५५७)।

कसण पु [कृष्ण] १ वरुण विशेष। २ वि. कृष्ण यणवाता, काना, ज्याम (हे २, ७५, ११०, कुमा)। ३ पच्य पु [°पच्य] कृष्ण-पत्र, बदी पखवारा (पाप्र)। ४ सार पुं [°सार] १ कृष्ण-विशेष। २ हरिण की एक जाति (नाट—मृच्छ ३)।

कसण वि [कृत्तन] मक्कल, सब, सम्पूर्ण (हे १, ७५)।

कसणमिअ पु [दे] बलभद्र, वामुदेव का बड़ा भाई (दे २, २३)।

कसणमिअ वि [कृष्णित] काना किय्या हुआ (पाप्र)।

कसमीर देवो कमीर (पटम ६८ ६५)।

कसर पु [दे] अथम चैल (दे २, ४, गा ७६५), 'नणु सीलभस्वहणे, तेवि ह सीयति का (? क) सट्ठ' (पुष्क ६३)।

कसर पुंन [दे कसर] रोग-विशेष, बरहू-विशेष, 'कच्छुव (? क) सराभिभूया खरतिकव-णक्पवंहइअविकयतणू' (ज २—पत्र १६५)।

कसरक पुन [दे. कसरत्तक] १ चर्वाण-शब्द, राते समय जो शब्द होना है वह; 'खल्ल न उ कसरक्केहि' (हे ४, ४२३, कुमा)। २ कुट्टमन, फूल की कली 'ते गिरिसिहरा ते वीत्तु-पल्लवा ते करीरनसरका। लव्भति करह। मठिनमियाइं कत्तो वणेत्थम्मि' (वज्जा ४६)।

कसव न [दे] वाप, भाफ। २ वि स्तोक, अल्प। ३ प्रचुर, व्याप्त (दे २, ५३)। ४ माद्र, गोला, 'गहिरकसव्यालवियदीहरवणको-लवमनिउरव' (स ४३७, दे २, ३३)। ५ कव'श, परख; 'बूडोअयकयवरचुएणकलुस-पालासफलकमव्वाओ' (गउड)।

कसा खी [कसा, कसा] चर्म-चट्टि, चाबुक,  
कोडा (विपा १, ६, सुपा ३४५) ।

कसा देखो कामा (पड्) ।

कसाइ वि [कपायिन] १ कपाय रगवाला ।  
२ श्लेष-मान-माया-लोभवाला (परण १८,  
श्राचा) ।

कसाइअ वि [कपायित] ऊपर देखो (गा  
४८२, श्रा ३५, श्राचा) ।

कसाय सक [कसाय्] ताडन करना,  
मारना । मूत्रा कसाय्वा (श्राचा) ।

कसाय पुं [कपाय] १ श्लेष, मान, माया  
श्रौं लोन (विसे १२२६, द ३) । २ रम-  
विशेष, कपैला (ठा १) । ३ वर्ण विशेष,  
लान पीला रग (उवा २२) । ४ क्वाय,  
काडा । ५ वि कपैला म्वादवाला । ६ कपाय  
रगवाला । ७ सुगन्धी, खुशबूदार (हि २,  
६६०) ।

कसार [दे] देखो कसार (भवि) ।

कसि वि [कपिन्] मारनेवाला, विनाशक;  
'बनारि एए कमिणो कनाया सिचति मूलाड  
पुणधमवस्स' (सुव १, १) ।

कसिअ न [कशिका] प्रतोट, चाबुक, 'श्रघो  
मए भद्वदीए कसिअं आडत्त' (प्रयो १०८) ।

कमिआ खी ऊपर देखो (नुर ६३, १७०) ।

कमिआ खी [दे] फल-विशेष, श्ररखचानी  
नामक वनस्पति का फल (दि २, ६) ।

कसिअ (पे) देखो कट्ट = कृष्ट (पड्) ।

कमिण देखो कमण = कृष्ण, कृष्ण (हे २,  
७७, कुमा, पात्र, दे ४, १२) ।

कमुमीरा खी [कम्मीर] एक उत्तर भारतीय  
दश (प्राक २८, ३३) ।

कमेर } पुन [कमेरु, क] जलीय वन्द-  
कमेरु } विशेष (गडड, परण ?) ।

कमेरुग पुन [कमेरुग] जलम होनेवाली वन-  
स्पति ती एक जाति (सूत्र २, ३, १८, श्राचा  
२, १, ८, ५) ।

कसोत खी [दे] धातु-विशेष, 'महाहिं  
कसोति नोधा वज्जमपेति' (मुज १०, १७) ।

कसप पु [द] पड्ड, कदम, वादी (दे २, २) ।

कसय न [दे] प्राकृत, उवहार, भेट (दि २,  
१२) ।

कससव पुं [काठयप] १ वरा-विशेष, 'कससव-  
वनुत्तरी' (विक ६५) । २ ऋषि-विशेष  
(श्रमि २६) ।

कह सक [कथय्] कहना, बोलना । कहइ  
(हे ४, २) । कर्म बत्वाइ, कहिअइ (हे १,  
१८७, ४, २४६) । वक कहत, कहिन,  
कहेमाण (खण ७२, सुर ११, १४८) ।  
वक्क, कथयत, कहिज्जत, कहिज्जमाण  
(राज, नुर १, ४४; गा १६८, नुर १४,  
६४) । संक कहिउ, कहिऊण (महा-  
काल) । क कहिणिज्ज, कहियउय, कहेयउय,  
कहणीय (सूत्र १, १, १, सुर ४, १६२,  
सुपा ३१६, परइ २, ४, सुर १२, १७०) ।

कह सक [कथ्] क्वाय करना, उवाला ।  
कहइ (पड्) ।

कह पुं [कफ] कफ, शरीरस्व घानु-विशेष,  
वलगम (कुमा) ।

कह देखो कहं (हे १, २६, कुमा, पड्) ।  
°कहवि देखो कह-कहपि (गडड, उप ७२८  
टी) । °वि देखो कह-पि (प्रासू ११४,  
१४१) ।

कहआ अ [कथंवा] वितकं श्रौर आग्रय अर्थ  
को बतलानेवाला अर्थ (से ७, ३४) ।

कहं अ [कथम्] १ कैमे, किम तरह ?  
(म्बप ४५, कुमा) । २ क्यों, किम लिए ?  
(हे १, २६, पड्, महा) । °महपि अ  
[°कथमपि] किसी तरह (गा १४६) ।

°कहा खी [°कथा] राग हेंप को उत्पन्न  
करनेवाली कथा, विकथा (श्राचा) । °चि,  
°ची अ [°चिन्] किनी तरह, किसी  
प्रकार मे (श्रा १२, उप ५३० टी) । °पि अ  
[°अपि] किसी तरह (गडड) ।

कहकह पुं [कहकह] प्रमोद-कलकन, खुशी  
का शोर (ठा ३, १—पत्र ११६, क्प) ।

कहकह अक् [कहकहय्] खुशी का शोर  
मचाना । वक कहकहित (परइ १, २) ।

कहकहमह पु [कहकहकह] खुशी का शोर  
(भग) ।

कहकह पुं [कथकथा] वातचीत (श्राचा २,  
१५, २) ।

कहग वि [कथक] १ कहनेवाला, (सद्वि  
२०) । २ पुं कथा-कार (उप १०३१ टी) ।

कहण न [कथन] कथन, उक्ति (धर्म १) ।  
कहणा खी [कथना] ऊपर देखो (श्रत २,  
उप ४६७, ६६८) ।

कहय देखो कहग (दि १, १४५) ।

कहइ पुन [दे] कर्पूर, खम्पर (श्रत १२) ।

कहा खी [कथा] कथा, वार्ता, हकीकत (सुर  
२, २५०, कुमा, स्वप्न ८३) ।

कहाणग } न [कथानक] १ कथा, वार्ता  
कहाणय } (श्रा १२, उप पृ ११६) । २

प्रसंग, प्रस्ताव, 'कथं से नाम जालिणित्ति  
कहाणयविसेमेण' (स १३३, ५८८) । ३  
प्रयोजन, कार्य, 'कहाणयविसेमेण समागथो  
पाडलावह' (स ५८५) ।

कहाय सक [कथय्] कहलाना, बुलवाना ।  
कहावेइ (महा) ।

कहायण पु [कार्पाण] सिका-विशेष (हे २,  
७१, ६३, कुमा) ।

कहाविअ वि [कथित] कहलाया हुआ (मुपा  
६५, ४५७) ।

कहि } अ [क्य, कुत्र] कहा, किस स्थान  
कहिआ } मे ? (उवा, मग, नाट, कुमा,  
कहि } उव) ।

कहित्तु वि [कथयित्तु] कहनेवाला, भापक  
(नम १५) ।

कहिय वि [कथित] कथित, उक्त (उव, नाट) ।

कहिया खी [कथिका] कथा, कहानी (उप  
१०३१ टी) ।

कहु (अप) अ [कुत,] कहा से ? (पड्) ।

कहेड वि [दे] तरण, जवान (दि २, १३) ।  
कहेत्तु देखो कहित्तु (ठा ४, २) ।

काअडची } खी [काकचिच्छी] गुञ्जा,  
काडची } पुंघची (प्राक ३०) ।

काडअ वि [काथिक] शारीरिक, शरीर-  
सवन्धी (श्रा ३४, प्रामा) ।

काडआ } खी [काथिकी] १ शरीर मव-  
काडगा } धी क्रिया, शरीर से निर्वृत्त ध्या-  
पार (ठा २, १, नम १०, नव १७) २ शोच-  
क्रिया (स ६४६) । ३ मूत्र, पेशाब (शोच  
२१६, उप पृ २७८) ।

काडदी खी [काकडी] इस नाम की एक  
नगरी, विहार की एक नगरी (सया ७६) ।

काडणी खी [दे] गुञ्जा, लाल रत्ती (दि २,  
२१) ।

काई स्त्री [काकी] कौए की मादा (विपा १, ३) ।

काड स्त्री [कापोती] लेण्या विशेष, आत्मा का एक प्रकार का परिणाम (भग, आचा) ।  
°लेमा स्त्री [°लेट्या] आत्म-परिणाम विशेष (सम, ठा ३, १) । °लेस्स वि [°लेट्य] कापोत लेश्यावाला (परण १७, भग) । °लेस्सा देखो °लेसा (परण १७) ।

काड देखो कर = कृ ।

काडवर पु [काकोडुम्बर] नीचे देखो (राज) ।  
काडवरी स्त्री [काकोडुम्बरी] श्रोपवि विशेष, 'निववउवउवरकारुवरिवोरि—' (उप १०३१ टी, परण १) ।

काडकाम वि [कर्त्तुकाम] करने को चाहने-वाला (श्रोप ५३७) ।

काडडुवण न [कायोडुवण] उषाटन, दूर-स्थित दूसरे के शरीर का आकर्षण करना (राया १, १४) ।

काडदर पुं [काकोदर] साँप की एक जाति (परह १, १) ।

काडमण वि [कर्त्तुमनस्] करने की चाह-वाला (उव, उप पृ ७०, सं ९०) ।

काडरिस पु [कापुरूप] १ खराब आदमी, नीच पुरुष । २ कातर, डरपोक पुरुष (गडड; सुर ८, १५०, सुपा १६२) ।

काडह पु [दे] वक, बगुला (दे २, ६) ।

काडसग्ग } पु [कायोस्सग्ग] १ शरीर पर  
काडस्सग्ग } के ममत्व का त्याग (उत्त २६) ।

२ कायिक-क्रिया का त्याग । ३ ध्यान के लिए शरीर की निश्चलता (पडि) ।

काऊ देखो काउ (ठा १, कम्म ४, १३) ।

काऊणं } देखो कर = कृ ।  
काऊण }

काओदर देखो काउदर (स्वप्न ६८) ।

काओली स्त्री [काकोली] कन्द-विशेष, वन-स्पति-विशेष (परण १) ।

काओवग पु [कायोपग] ससारी आत्मा (सुम्म २, ६) ।

काओसग्ग देखो काउसग्ग (भवि) ।

कारु पुं [काक] १ कौआ, वायस (अनु ३) ।  
२ ग्रह-विशेष, ग्राहविष्णायक देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८) । °जघा स्त्री [°जङ्घा]

वनस्पति-विशेष, चकसेनी, घु घची (अनु ३) ।  
देखो काग, काय = काक । =

काकंडग पु [काकन्दक] एक जैन महर्षि (कप्प) ।

काकंदिय पु [काकन्दिक] एक जैन महर्षि (कप्प) ।

काकदिया स्त्री [काकन्दिका] जैन मुनियों की एक शाखा (कप्प) ।

काकटी देखो काडटी (राया १, ६, ठा ५, १) ।

काकणि देखो कागणि (विपा १, २) ।

काकलि देखो कागलि (ठा १०—पत्र ४७१) ।

काग देखो काक (दे १, १०६, प्रासू ६०) ।

°तालसजीवगनाय पुं [°तालसजीवकन्या-य] काकतालीयन्याय (उप १४२ टी) ।

°तालिज्ज, °तालीअ न [°तानीय] जैसे कौए का अर्तकित आगमन और ताल फल का अकस्मात् गिरना होता है ऐसा अविचकित

सम्भव, अकस्मात् किसी कार्य का होना (आचा; दे ५, १५) । °थल न [°स्थल] देश-विशेष (दे २, २७) । °पाल पु [°पाल] कुष्ठ-विशेष (राज) । °पिंढी स्त्री [°पिण्डी] अन्न-पिण्ड (आचा २, १, ६) । देखो काय = काक ।

कागंटी देखो काडटी (अनु २) ।

कागणि स्त्री [दे] १ राज्य, 'असोगसिरिणो पुत्तो अघो जायइ कागणि' (विसे ८६२) ।  
२ मास का छोटा टुकड़ा (श्रीप) ।

कागणी देखो कागिणी (आ २७, ठा ७) ।

कागणी स्त्री [काकिणी] सवा गुँजा का एक वाट (अणु १५५) ।

कागल पु [काकल] ग्रीवास्य उन्नत प्रदेश (अनु) ।

कागलि } स्त्री [काकलि, °ली] १ सूक्ष्म  
कागली } गीत-स्वनि, स्वर-विशेष (सुपा ५६, उप पु ३५) । २ देवी-विशेष, भगवान् अभिनन्दन की शासन-देवी (पव २७) ।

कागिणी स्त्री [काकिणी] १ कौडी, कपादिका (उर ७, ३, उव; आ २८ टी) । २ बीस कौडी के मूल्य का एक सिक्का (उप ५४५) ।

३ रत्न विशेष (सम २७, उप ६८६ टी) ।

कागी स्त्री [काकी] १ कौए की मादा (वा २ विद्या विशेष (विसे २४३३) ।

काकोणंद पु [काकोनन्द] इस नाम की एक म्लेच्छ जाति, 'मिच्छा कागोणदा विक्खाया महियलम्मि ते सूरा' (पउम ३४, ४१) ।

काठिण्ण न [काठिन्य] कठिनता (धम्मस ५१, ५४) ।

काठ पु [काथ] काठा (कुलक ११) ।

काण वि [काण] काना, एकाग्र (सुपा ६४३) ।

काण वि [दे] १ सच्चिद्र, काना (आचा २, १, ८) । २ चुराया हुआ । °कय पुं [°कय] चुराई हुई चीज को खरीदना (सुपा ३४३-३४४) ।

काणच्छि } स्त्री [दे] टेढ़ी नजर से देखना,  
काणच्छिया } कटाक्ष (दे २, २४, भवि),  
'काणच्छियाओ य जहा विडो तहा करेइ' (आवम) ।

काणण न [कानन] १ वन, जंगल (पात्र) ।  
बगीचा, उपवन (अनु, श्रीप) ।

काणथ्येव पुं [दे] विरल जल-वृष्टि, बूँद-बूँद वरसना (दे २, २६) ।

काणद्धी स्त्री [दे] परिहास (दे २, २८) ।

काणिक्का स्त्री [दे] बड़ी इंट (वृह ३) ।

काणिट्टा स्त्री [काणेष्टा] लोहे की इंट (वव ४) ।

काणिआर देखो कणिआर (सक्ति १७) ।

काणिय न [काण्य] झाँक का रोग, 'काणियं किम्मिअं चैव, कुणिय खुज्जिय तहा' (आचा) ।  
काणीण पु [कानीन] कुँवारी कन्या से उत्पन्न पुत्र (भवि) ।

कादव देखो कायव (परह १, १) ।

कादवरी देखो कायवरी (अभि १८८) ।

कादूसण वि [कद्रूपण] आत्मा को दूषित करनेवाला । स्त्री °णिया (भग ६, ५—पत्र २६८) ।

कापुरिस देखो काउरिस (राया १, १) ।

काम पुं [काम] रोग, बीमारी (दननि २, १५) । °एव देखो कामदेव (कुप्र ४११) । °रघ न [°रघ] आयविल तप (सत्रोव ५८) । °डहण पुं [°दहन] महादेव, शिव (वजा ६८) । °स्य देखो कामरूअ (धम्मवि ५६) ।

काम सक [कामय्] चाहना, वाञ्छना ।  
कामेइ (पि ४६१) । कामेत्ति (गडड) । वकृ, कामेत्त कामअमाण (गा २५६, अग्नि ६१) ।

काम पु [काम] १ इच्छा, कामना, अभिलाषा (उत्त १८ आचा: प्रानू ६६)। २ सुन्दर शब्द, रूप वगैरह विषय (भग ७, ७, ठा ४, ४)। ३ विषय वा अभिलाष (कुमा)। ४ मदन, कन्दर्प (कुमा: प्रानू १)। ५ इन्द्रिय-प्रीति (धर्म १)। ६ मैथुन (परण २)। ७ छन्द-विशेष (पिंग)। ० फन न [फान्त] देव-विमान विशेष (जीव ३)। ० क्म न [क्म] लान्तक देव-लोक के इन्द्र का एक यात्रा-विमान (ठा १०—पत्र ८३७)। ० काम वि [काम] विषय की चाहवाला (परण २)। ० कामि वि [कामिन्] विषयानिलापी (आचा)। ० कूड न [कूट] देव विमान-विशेष (जीव ३)। ० गम वि [गम] १ स्वेच्छाचारी, स्वैरी (जीव ३)। २ न देवो क्म (जीव ३)। ० गामि स्त्री [गामी] विद्या-विशेष (पउम ७ १३५)। ० गुण न [गुण] १ मैथुन (परह १, ४)। २ शब्द-प्रमुख विषय (उत्त १४)। ० घड पु [घट] ईप्सित चीज को देनेवाला दिव्य कलश (था १४)। ० जल न [जल] स्नान-पीठ, जिसपर बैठकर स्नान किया जाता है वह पट्ट: 'सिराणपीठ तु कामजल' (निवृ १३)। ० जुग पु [युग] पक्षि-विशेष (जीव ३)। ० उक्तय न [ध्वज] देवविमान-विशेष (जीव ३) ० उक्तया स्त्री [ध्वजा] इन नाम की एक वेश्या (विपा १, २)। ० ट्टि वि [ट्टिन्] विषयानिलापी (राया १, १)। ० ट्टिहय पु [ट्टिक] १ जैन साधुओं का एक गण (ठा ६—पत्र ४५१)। २ न जैन मुनियों का एक कूल (राज)। ० नगर न [नगर] विद्याधरो का एक नगर (रुक)। ० दाग्णी स्त्री [दाग्िनी] ईप्सित फल को देनेवाली विद्या-विशेष (पउम ७, १३५)। ० ट्टहा स्त्री [ट्टया] कामवेनु (था १६)। ० द्दअ, द्दय पु [द्दय] १ धन, कन्दर्प (नाट, स्पन् ५५)। २ एक जैन श्रावक का नाम (उवा)। ० धेणु स्त्री [धेनु] ईप्सित फल देनेवाली गौ (काव)। ० पाल पुं [पाल] १ देव-विशेष (दीव)। २ ब्रह्मदेव, ह्नायुध (पाप्र)। ० पिपासय वि [पिपासक] विषयानिलापी (भग)। ० पुर न [पुर] इस नाम का एक विद्याधर नगर (रुक)। ० प्पभ

न [प्रभ] देवविमान-विशेष (जीव ३)। ० फास पु [स्पर्श] ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठाता देव-विशेष (नुज २०)। ० महावण न [महावन] वनारण के जमीप का एक चैत्य (भग १५)। ० ह्अ पु [रूप] देश-विशेष, जो आसाम में है (पिंग)। ० लेस्स [लेश्य] देव-विमान-विशेष (जीव ३)। ० वणन न [वर्ण] एक देव-विमान (जीव ३)। ० सत्य न [शास्त्र] रति शास्त्र (धर्म २)। ० समणुण वि [समनोज्ञ] कामा-सक्त, कामान्व (आचा)। ० सिंगार न [शृङ्गार] देव-विमान-विशेष (जीव ३)। ० सिष्ट न [शिष्ट] एक देव विमान-विशेष (जीव ३)। ० वट्ट न [वर्त] देव-विमान-विशेष (जीव ३)। ० वसाडत्त स्त्री [वशा-यिता] योगी का एक तरह का ऐश्वर्य, जिसमें योगी अपनी इच्छा के अनुसार सर्व पदार्थों का अपने चित्त में समावेश करना है (राज)। ० ससा स्त्री [ठासा] विषयानिलाप (ठा ४, ४)।

काम थ [कामम्] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ श्रवधारण (सूत्र २, १)। २ अनुमति, मम्मति (निवृ १६)। ३ अभ्युपगम, न्वीकार (सूत्र २, ६)। ४ अतिशय, अविक्य (हे २, २१७)।

कामग न [कामाङ्ग] कन्दर्प का उत्तेजक स्नान वगैरह (सूत्र २, २)।

कामदुहा स्त्री [कामदुधा] कामवेनु, ईप्सित वस्तु को देनेवाली दिव्य गौ (पउम ८२, १४)।

कामध पु [कामान्ध] विषयानुर, तीव्र कामी (प्रानू १७६)।

कामन्सोर पुं [न्] गदंभ, गवा (दे २, ३०)।

कामग वि [कामक] १ अभिलषणीय, वाञ्छनीय (परह १, १)। २ चाहनेवाला, इच्छुक (सूत्र १, २, २)।

कामण न [कामन] चाह, अभिलाष, 'परह-द्विकामणेण जीवा नयम्मि वच्चति' (महा)।

कामय देखो कामग (उवा)।

कामि वि [कामिन्] विषयानिलापी (आचा, गड्ड)।

कामि वि [कामिन्] अभिलापी (कुप्र १५४)। कामिअ वि [कामित] वाञ्छित, अभिनपित (नुपा २५५)।

कामिअ वि [कामिक] १ काम-मन्वन्वी, विषय-सम्बन्धी (भक्त १११)। २ न तीर्थ-विशेष (ती २८)। ३ सरोवर-विशेष, जिसमें ईप्सित जन्म मिलता है (राज)। ४ वि. इच्छा पूर्ण करनेवाला (स ३६०) ५ वि. इच्छुक, इच्छावाला, सामिलाप (विपा १, १)। कामिआ स्त्री [कामिका] इच्छा, अभिलाषा, 'अकामिआण चिण्णति दुक्ख' (परह १, ३)। कामिजुल पु [कामिञ्जुल] पत्ति विशेष (दे २, २६)।

कामिड्डि पु [कामिड्ढि] एक जैन मुनि, आर्य नुहन्तिमूरि का एक शिष्य (कप्प)। कामिड्डिय न [कामिड्ढिक] जैन मुनियों का एक कुल (कप्प)।

कामिणी स्त्री [कामिनी] कान्ता, स्त्री (सूपा ५)।

कामिय वि [कामित] मयेष्ठ, जितना चाहें उतना (पिड २७२)।

कामुअ वि [कामुक] कामी, विषयानिलापी कामुग (मै २५, महा)। सत्य न [शास्त्र] काम-शास्त्र, रति-शास्त्र (उप ५३० टी)।

कामुत्तरवडिसग न [कामोत्तरावतसक] देवविमान-विशेष (जीव ३)।

काय पु [काय] १ वनस्पति की एक जाति (सूत्र २, ३, १६)। २ एक महाग्रह (नुज २०)। ३ पुन जीव-निकाय, जीव-समूह, 'एयाई कायाइ पवेदिताई' (सूत्र १, ७, २)। ० मत वि [वत्] बडा शरीरवाला (सूत्र २, १, १३)। ० वह पुं [वध] जीव-हिंसा, (धावक ३४६)।

काय पु [काय] १ शरीर, देह (ठा ३, १, कुमा)। २ समूह, राशि (विमे ६००)। ३ देश-विशेष (परह १, १)। ४ वि उम देश में रहनेवाला (परण १)। ० गुत्त वि [गुम्] शरीर को बश में रखनेवाला (भग)। ० गुत्ति स्त्री [गुम्नि] शरीर को बश में रखना, जिनेन्द्रियता (भग)। ० जोअ, ० जोग पु [योग] शरीर व्यापार, शारीरिक क्रिया (भग)। ० जोगि वि [योगिन्] शरीर-जन्म

क्रियावाला (भग) । °ट्टिइ स्त्री [°स्थिति] मर कर फिर उसी शरीर में उत्पन्न होकर रहना (ठा २, ३) । °णिरौह पुं [°निरोध] शरीर-व्यपार का परित्याग (आत्र ४) । °तिगिन्छा स्त्री [°चिकित्सा] १ शरीर-रोग की प्रतिक्रिया । २ उसका प्रतिपादक शास्त्र (विपा १, ८) । °भवस्थ वि [°भवस्थ] माता के उदर में स्थित (भग) । °वंक पु [°वन्ध्य] ग्रह-विशेष (राज) । °समिअ वि [°ममित] शरीर की निर्दोष प्रवृत्ति करने-वाला (भग) । °समिइ स्त्री [°समिति] शरीर की निर्दोष प्रवृत्ति (ठा ८) ।

काय पु [कारु] १ कौआ, वायस (उप पृ २३, हेका १४८, वा २६) । २ वनस्थति-विशेष, काला उम्बर (परण १—पत्र ३५) । देखो कारु, काग ।

काय पुं [काच] कांच, शीशा (महा, आचा) । काय पु [क] १ काँवर, वहाँगी, वीक होने के लिए बराबरनुमा एक वस्तु, इसमें दोनों ओर सिकहर लटकाने जाते हैं (राया १, ८ टी—पत्र १५२) । °कोडिय पु [°कोटिक] काँवर से भार होनेवाला (राया १, ८ टी) । देखो काव ।

काय पु [दे] १ लक्ष्य, वेव्य, निशाना । २ उपमान, जिस पदार्थ की उपमा दी जाय वह (दे २, २६) ।

कायचुल पु [दे] कामिञ्जुल, जल-पक्षी-विशेष (दे २, २६) ।

कायंदी स्त्री [दे] परिहास, उपहान (दे २, २८) ।

कायदी देखो आइदी (स ६) ।

कायंधुअ पु [दे] कामिञ्जुल जल-पक्षी विशेष (दे २, २६) ।

कायंघ } पु [कादम्ब, °क] १ हंस-पक्षी कायंघा } (पात्र, कप्प) । २ गन्धर्व-विशेष । ३ कदम्ब वृक्ष (राज) । ४ वि कदम्ब-वृक्ष-सम्बन्धी, 'कायघपुष्पगोलयमसूरअइमुत्तयस्स पुष्प व' (पुष्प २६८) ।

कायवर न [कादम्बर] मध्य-विशेष, गुड का दाह, 'कायवरपसभा' (पउम १०२, १२२) ।

कायंघरी स्त्री [नादम्बरी] एक गुहा का नाम (कूप ६३) ।

कायघरी स्त्री [कादम्बरी] १ मदिरा, दाह (पात्र, पउम ११०, १०) । २ अटवी-विशेष (स ५५१) ।

कायक न [दे कायक] हरा रंग की रुई में बना हुआ वस्त्र (आचा २, ५, १) ।

कायतथ पु [मायस्थ] जाति-विशेष, कायथ जाति, कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जाति, लेवक, लिखने का काम करनेवाली मनुष्य-जाति (मुद्रा ७६, मृच्छ ११७) ।

कायपिउच्छा } स्त्री [दे] कोकिला, कोयल, कायपिउला } पिकी (दे २, ३०, पड्) ।

कायर वि [कातर] अघोर, डरपोक (राया १, १, प्रासू ५८) ।

कायर वि [दे] प्रिय, स्नेह-पात्र (दे २, ५८) ।

कायरिय वि [कानर] १ डरपोक, भयभीत, अघोर, 'घोरणवि मरियव्वं कायरिएणावि धवस्समरियव्व' (प्रासू १०६) । २ पु गोशालक का एक भक्त (भग ८, ५) ।

कायरिया स्त्री [कातरिका] माया, कपट (सूत्र १, २, १) ।

कायल पु [दे] १ काक, कौआ (दे २, ५८, पात्र) । २ वि प्रिय, स्नेह-पात्र (दे २, ५८) ।

कायलि देखो कागलि (नाट—मृच्छ ६२) ।

कायचंम [कायवन्ध्य] ग्रह-विशेष, ग्रहा विघ्नयक देव-विशेष (राज) ।

कायञ्च देखो कर = कृ ।

कायह वि [कायह] देश-विदेश में बना हुआ (वस्त्र), (आचा २, ५, १, ७) ।

काया स्त्री [माया] शरीर, देह (प्रासू ११२) ।

कार सक [कारय्] करवाना, बनवाना ।

कारेइ, कारेह (पि ४७२, सुपा ११३) ।

मूका कारेत्या (पि ५१७) । वृक कारयत (सुर १६, १०), कारेमाण (कप्प) । वृक कारिज्जत (सुपा ५७) । सक्क कारिऊण (पि ५८४) । कृ कारेयञ्च (पचा ६) ।

कार वि [दे] कड़, कडवा, तीता (दे २ २६) ।

कार पुन देखो कारा = कारा (स ६११, राया १, १) ।

कार पु [कार] १ क्रिया, कृति, व्यापार (ठा १०) । २ रूप, आकृति । ३ संघ का मध्य भाग (वव ३) ।

°कार वि [°कार] करनेवाला (पउम १७, ७) ।

कारकड वि [दे] परुप, कठिन (दे २, ३०) ।

कारड } पु [कारण्ड, °क] पक्षि-विशेष, 'हंस-कारडग' कारंडवचक्कवाआवसोमिय' (भवि कारडव } श्रौप, स ६०१, राया १, १, परह १, १, विक्र ४१) ।

कारग वि [कारक] १ करनेवाला (पउम ८२, ७६, उप पृ २१५) । २ करानेवाला (आ ६, विसे) । ३ न कर्ता, कर्म वगैरह व्याकरण प्रसिद्ध कारक (विमे ३३८४) । ४ कारण, हेतु, 'कारणं ति वा कारणं ति वा माहारणं ति वा एगद्धा' (आच १) । ५ उदाहरण, दृष्टान्त (श्लो १६ भा) । ६ पुन नम्यकत्व विशेष, शास्त्रानुसार शुद्ध क्रिया, 'जे जह भणिय तुमए त तह करणम्मि कारणो होइ' (मम्य १४) ।

कारण न [कारण] १ हेतु, निमित्त (विसे २०६८, स्वप्न १७) । २ प्रयोजन (आचा) । ३ अपवाद (कप्प) ।

कारणिज्ज वि [कारणीय] प्रयोजनीय (स ३२६) ।

कारणिय वि [कारणिक] १ प्रयोजन से किया जाता (उवर १०८) । २ कारण से प्रवृत्त (वव २) । ३ पु न्याय-कर्ता, न्यायाधीश (मुपा ११८) ।

कारय देखो कारण (आ १६, विसे ३४२०) ।

कारव सक [कारय्] करवाना, बनवाना ।

कारवेइ (उव) । वृक कारवित्त (सुपा ६३२, पुष्प ४७) । सक्क कारवित्ता (कप्प) ।

कारवण न [कारण] निर्माण, बनवाना (राज) ।

कारवस पु [कारवश] देश-विशेष (भवि) ।

कारवाहिय वि [कारवाधित] देखो करे-चाहिय (श्रौप) ।

कारविय वि [कारित] कराया हुआ (सुर १, २२६) ।

कारह वि [कारभ] करम-सम्बन्धी (गजड) ।

कारा स्त्री [कारा] कैदखाना (दे २, ६०, पात्र) । °गार पुन [°गार] कैदखाना, जेल (सुपा १२२, सार्ध ५२) । °घर न [°गृह] कैदखाना (अच्छ ८३) । °मदिर न [°मन्दिर] कैदखाना, जेलखाना (कप्प) ।

कारा स्त्री [दे] लेखा, रेखा (दे २, २६) ।



कारायणी स्त्री [दे] शान्मलि-वृक्ष, सेमर का पेड़ (दि २, १८) ।

काराय देवी नारय । कारावेइ (पि ५५२) । नवि काराविन् (पि ५२८) ।

कारायण देवी कारायण (पण्ड १, ३, उप ४०६) ।

काराय वि [कारक] करानेवाला, विवायन (स १५७) ।

कारायि वि [कारित] करवाया हुआ, बनवाया हुआ (विसे १०१६, नुर ३, २२, स १६३) ।

कारि वि [कारिन्] कर्ता, करनेवाला, 'एयन्स कारियो वानिचन्तमारोविया जेण' (उप ५६७ टी), 'एयन्सगुत्वन्स कारियो ग्रह्य' (नुर ८, ५६) ।

कारिमा देवी कारिया (तदु ४६) ।

कारिम वि [दे] कृत्रिम, बनावटी, नकली (दि २, २७; ना ४५७, पङ्, उप ७२८ टी, स ११६, प्रामू २०) ।

कारिय देवी कज्ज = कार्य (सूत्र १, २, ३, १०, दस ६, ६५) ।

कारिय वि [कारित] कराया हुआ, बनवाया हुआ (पण्ड २, ५) । कार्य (सूत्र ना १५१) ।

कारियट्टे स्त्री [दे] बन्नी-विशेष, करैला का गाछ (पण्ड १—पत्र ३३) ।

कारिया स्त्री [कारिका] करनेवाली, कर्त्री (उवा) ।

कारिइ देवी कारि (संकोच ३८) ।

कारिई स्त्री [दे] बन्नी विशेष, करैला का गाछ (सूत्र ६१) ।

कारीम पुं [कारीप] गोटडा की धरिन, कटा की धान (उत्त १२) ।

कारु पुं [कारु] १ कारीगर, शिल्पी (पाम्, प्रामू ८०) । २ नव प्रकार के कार चमकर आदि ।

कारुञ्ज वि [कारुञ्जिय] कारीगर से सम्बन्ध रखनेवाला (पण्ड १, २) ।

कारुणिय वि [कारुणिक] दयालु, दयालु (ठा ४, २, सल) ।

कारुण्य } न [कारुण्य] दया, कल्याण (महा कारुञ्ज } उप ७२८ टी) ।

कारुमाग } देवी सार = कारु ।  
कारुयज्य }

कारेइय न [दे] करैला, नकारी-विशेष (अनु ६) ।

कारोटिय पु [कारोटिक] १ कापालिक, मित्रुक विशेष । २ ताम्बूल बाहक, ल्यगीवर (श्रौप) ।

काल न [दे] तमिल, अन्वकार (दि २, २६ पङ्) ।

काल पुं [काल] १ समय वक्त (जी ४६) । २ मृत्यु, मरण (विसे २०६७, प्रामू ११२) । ३ प्रस्ताव, प्रसंग, अवसर (विने २०६७) । ४ विलम्ब, देरी (स्वप्न ६१) । ५ उमर, वय (स्वप्न ४२) । ६ ऋतु (स्वप्न ४२) । ७ ग्रह-विशेष, ग्रहाविधायक देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८) । ८ ज्योति-शास्त्र प्रसिद्ध एक कुयोग (गण १६) । ९ सान्नी नरक-पृथ्वी का एक नरकावास (ठा ५, ३—पत्र ३४१, सम ५८) । १० नरक के जीवों को दुःख देनेवाले परमात्मिक देवों की एक जाति (सम २८) । ११ बलम्ब इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) । १२ प्रमञ्जन इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) । १३ इन्द्र-विशेष, पिशाच-निवाय का दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । १४ पूर्वोप लवण समुद्र के पाताल बलशो का अविष्ठाता देव (ठा ४, २—पत्र २०६) । १५ राजा श्रेणिक का एक पुत्र (निर १, १) । १६ इस नाम का एक गृहपति (शाया २, १) । १७ अनाव (वृद्ध ४) । १८ पिशाच देवों की एक जाति (पण्ड १) । १९ निवि-विशेष (ठा ६—पत्र ४४६) । २० वरुण-विशेष, श्याम-वरुण (पण्ड २) । २१ न. देव विमान-विशेष (सम ३५) । २२ 'निरवावनी' नूय का एक अध्ययन (निर १, १) । २३ कानी-देवों का सिंहासन (शाया २) । २४ वि कृष्ण, काना रंग का (नुर २, ५) । २५ क्वि वि [क्वाडि क्षन] १ समय की अपेक्षा करने-वाला (प्राचा) । २ अवसर का शता (उत्त ६) । ३ कल्प पुं [कल्प] १ समय-सम्बन्धी शास्त्रीय विधान । २ उसका प्रतिपादक शास्त्र (पंचमा) । ३ काल पुं [काल] मृत्यु-समय (विने २०६६) । ४ कूड न [कूट] उत्कट

विप-विशेष (मुपा २३८) । ५ क्वेव पुं [क्वेप] विलम्ब, देरी (मे १३, ४२) । ६ गय वि [गत] मृत्यु-प्राप्त, मृत (शाया १, १, महा) । ७ चक्र न [चक्र] १ वीस सागरोपम परिमित समय (एदि) । २ एक भयंकर शस्त्र, 'जाहे एवमवि न सक्कइ ताहे कालचक्रं विच्छवइ' (आवम) । ३ चूला स्त्री [चूडा] अविक्त-मास वगैरह का अविक्त समय (निहू १) । ४ णु वि [ज्ञ] अवसर का जानकार (उप १७६ टी, आचा) । ५ दट्ट वि [दट्ट] मौत मे मरा हुआ (उप ७२८ टी) । ६ देव पु [देव] देव-विशेष (दीव) । ७ धम्म पुं [धर्म] मृत्यु, मरण (शाया १, १, विपा १, २) । ८ न्न, णु देवी णु (पि २७६, मुपा १०९) । ९ परिचाय पु [पर्याय] मृत्यु-समय (आचा) । १० परिहीण न [परिहीन] विलम्ब, देरी (राय) । ११ पाल पुं [पाल] देव विशेष, धरणेन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) । १२ पास पुं [पाश] ज्योति-शान्त-प्रसिद्ध एक कुयोग (गण १८) । १३ पिट्ट, पुट्ट पुन [पृष्ट] १ वनुप । २ कर्ण का वनुप । ३ काला हरिण । ४ कौञ्च पत्नी (पि ५३) । ५ पुरिम पु [पुरुप] जो पुवेद कर्म का अनुभव करता हो वह (सूत्र १, ४, १, २ टी) । ६ पभ पु [प्रभ] इन नाम का एक पर्वत (ठा १०) । ७ फोडय पुंस्त्री [स्फोटक] प्राणहर फोज । स्त्री ङिया (रंभा) । ८ माम पु [मास] मृत्यु-समय, 'कालमासे कारं किच्चा' (विपा १, १, २, भग ७, ६) । ९ मासिणी स्त्री [मासिनी] गभिणी, उन्निणी (दस ५, १) । १० मिग पुं [मृग] कृष्ण मृग की एक जाति (ज २) । ११ रत्ति स्त्री [रात्रि] प्रलय रात्रि, प्रलय-काल (गड्ड) । १२ वडिसग न [वतमरु] देव-विमान-विशेष, काली देवी का विमान (शाया २) । १३ वाइ वि [वादिन्] जगत् को कालकृत माननेवाला, समय को ही सब कुछ माननेवाला (एदि) । १४ वासि पुं [वर्षिन] अवसर पर बरसनेवाला मेघ (ठा ४, ३—पत्र २६०) । १५ संदीव पुं [सदीप] अनुर-विशेष, त्रिपुरागुर (प्राक) ।

°समय पु [°समय] समय, वक्त (नुज ८) । °समा स्त्री [°समा] नमय-विशेष, आरक रूप समय (जो २) । °सार पुं [°सार] मृग की एक जाति, काला मृग, 'एकौ वि कालमारो ए देह गतुं पयाहिएव लतो' (गा २५) । °सोअरिय पुं [°सौरिक] स्वनाम ध्यात एक कचाई (घाक) । °गारु, °गुरु, °गिरु न [°गुरु] सुगन्धि द्रव्य-विशेष, जो घूप के काम में लाया जाता है (रागा १, १, कप्प; श्रौप, गड्ड) । °यस, °स न [°यस] लोहे की एक जाति (हे १, २६६, कुमा, प्राप्र, से ८, ४६) । °सवेसियपुत्त पुं [°स्यवैशिकपुत्र] इस नाम का एक जैन मुनि जो भगवान् पारवनाथ की परम्परा में थे (भग) ।

कालंजर पु [कालंजर] १ देश-विशेष (पिंग) । २ पर्वत विशेष (आवम) । देखो कालिंजर ।

कालक्खर सक [दे] १ निर्भयता करना, फटकारना । २ निर्वासित करना, बाहर निकाल देना, 'तो तेए भणिया भजा, पिण । पुत्तो कालक्खरियइ एसो, तो मा रोमेए भणइ तयनिमुह, मइ जीवतीए इमं न होइ ता जाड दव्वपि; किं फजइ लच्छीए, पुत्त-विउत्ताए पिउणा पिययम । जयम्मि' (मुपा ३६६, ४००) ।

कालक्खर पुन [कालाक्षर] १ अल्प-ज्ञान, अल्प-शिक्षा, २ वि अल्प-शिक्षित, 'कानक्खरइसिन्निवघ घम्मिघ रे निवकीडअसरिच्छ' (गा ८७८) ।

कालक्खरिअ वि [दे] १ उपालम्ब, निर्भय-सिद्धि । २ निर्वासित, 'तहवि न विरमइ दुलहो अणाहुकुणडाए सगमे, तत्तो कालक्खरिओ पिउणा' (मुपा ३८८) । 'तो पिउणा कालेण कालक्खरिओ' (मुपा ४८८) ।

कालक्खरिअ वि [कालाक्षरिक] देरो से अक्षर जाननेवाला, अशिक्षित, 'भो तुम्हाए मज्जे अह एक्को कालक्खरिओ' (कप्प) ।

कालग } पुं [कालक] १ प्रसिद्ध जैनाचार्य  
कालज } (पुष्क १८६, २४०) । २ अमर, मौरा (राज) । देखो काल (उवा; उप ६८६ वी) ।

कालय वि [दे] घृत्तं, ठग (दे २, २८) ।

कालवट्ट न [दे. कालवट्ट] घनुप (दे २, २८) ।

कालवेसिय पुं [कालवैशिक] एक वेस्या-पुत्र (ती ७) ।

काला स्त्री [काला] १ श्याम-वर्णवाली । २ तिरस्कार करनेवाली (कुमा) । ३ एक इन्द्राणी, चमरेन्द्र की एक पटरानी (ठा ५, १) । ४ वेण्या-विशेष (ती ७) ।

कालाइक्कमय न [कालातिक्रमक] तप-विशेष, दिन के पूर्वार्ध तक आहार-व्याग (सवोच ५८) ।

कालाकोण पुन [काललक्षण] काला नोन या नमक (दस ३, ८) ।

कालि पु [कालिन्] विहार का एक पर्वत (ती १३) ।

कालिअमूरि पु [कालिकसूरि] एक प्रसिद्ध प्राचीन जैन आचार्य (विचार ५२६) ।

कालिआ स्त्री [दे] १ शरीर, देह । २ कालान्तर । ३ मेघ, वाग्नि (दे २, ५८) । ४ मेघ-समूह, बादल (पाप्र) ।

कालिआ स्त्री [कालिमा] १ देवी-विशेष (मुपा १८२) । २ एक प्रकार का तूफानी पवन (उप ७२८ टी, रागा १, ६) ।

कालिा पु [कालिङ्ग] १ देश विशेष, 'पत्तो कालिगदेमओ' (था १२) । २ वि कलिङ्ग देश में उत्पन्न (पउम ६६, ५५) ।

कालिंगी स्त्री [कालिङ्गी] वल्ली-विशेष, तरबूज का गाछ (परण १) ।

कालिंगी स्त्री [कालिङ्गी] विद्या विशेष (सूम २, २, २७) ।

कालिंजण न [दे] तापिच्छ, श्याम तमाल का पेड़ (दे २, २६) ।

कालिंजणी स्त्री [दे] ऊपर देखो (दे २, २६) ।

कालिंजर पुं [कालिंजर] १ देश-विशेष (पिंग) । २ पर्वत-विशेष (उत्त १३) । ३ न जगल-विशेष (पउम ५८, ६) । ४ तीर्थ-स्थान-विशेष (ती ७) ।

कालिंदी स्त्री [कालिन्दी] १ यमुना नदी (पाप्र) । २ एक इन्द्राणी, शक्रेन्द्र की एक पटरानी (पउम १०२, १५६) ।

कालिं व पु [दे] १ शरीर, देह । २ मेघ, वाग्नि (दे २, ५६) ।

कालिा देखो कालिय = कालिक (राज) ।

कालिगी स्त्री [कालिकी] सज्ञा-विशेष, बहुत समय पहले गुजरी हुई चीज का भी जिससे स्मरण हो सके वह (विसे ५०८) ।

कालिज्ज न [कालेय] हृदय का गूढ भाग-विशेष (तट्ट) ।

कालिम पुं स्त्री [कालिमन्] श्यामता, कृष्णता, दागीपन (सुर ३, ४४, था १२) ।

कालिय पु [कालिय] इस नाम का एक मर्प (मुपा १८१) ।

कालिय वि [कालिक] १ काल में उत्पन्न, काल-संबन्धी । २ अनिश्चित, अव्यवस्थित, 'हृत्यागया इमे कामा कालिया जे अणागया' (उत्त ५, कह १६) । ३ वह शास्त्र, जिसको अमुक समय में ही पढ़ने की शास्त्रीय आज्ञा है (ठा २, १—पत्र ४६) । ४ दीव पु [°द्वीप] द्वीप-विशेष (रागा १, १७—पत्र २२८) । ५ पुत्त पु [°पुत्र] एक जैन मुनि जो भगवान् पारवनाथ की परम्परा में थे (भग) । ६ सणिण वि [°सजिन्] कालिकी संज्ञावाला (विसे ५०६) । ७ सुय न [°श्रुत] वह शास्त्र जो अमुक समय में ही पढ़ा जा सके (रादि) । ८ णुओग पु [°णुओग] देखो पूर्वोक्त अर्थ (भग) ।

काली स्त्री [काली] १ विद्या-देवी-विशेष (सति ५) । २ चमरेन्द्र की एक पटरानी (ठा ५, १, रागा २, १) । ३ वनस्पति-विशेष, काकजङ्घा (अनु ४) । ४ न्यामवर्णवाली स्त्री, 'सामा गायइ महुर, काली गायइ खर च हक्ख च' (ठा ७) । ५ राजा अण्णिक की एक रानी (निर १, १) । ६ चौथी जैन शासन-देवी (सति ६) । ७ पार्वती, गौरी (पाप्र) । ८ इस नाम का एक छद्म (पिंग) ।

कालुण न [कारुण्य] दया, करुणा । °वड्ढिया स्त्री [°वृत्ति] भिक्ष माँग कर आजीविका करना (विपा १, १) ।

कालुणिय देवो कारुणिय (सूम १, १, १) ।

कालुणीय देखो कारुणिय (सूम १, ३, २, ६) ।

कालुय पु [दे] अश्व की एक उत्तम जाति (मम्मत्त २१६) ।

कालुसिय न [कालुज्य] कलुपता, मलिनता (आउ) ।

कालुस्स न [कालुप्प] कलुपपन (भा २) ।  
कालेज्ज न [दे] नापिच्छ, श्याम तमाल का  
पेड (दे २, २६) ।

कालेय न [कालेय] ? काली देवी का अन्त्य ।  
२ मुगन्वि द्रव्य विशेष, कालचन्दन (स ७५) ।  
३ हृदय का माम-खण्ड, कलेजा (सूत्र १,  
५, १, रंभा) ।

कालोट देवो कालोय (जीव ३) ।

कालोदयि षु [कालोदयि] समुद्र-विशेष  
(पएह १, ५) ।

कालोदाड पु [कालोदायिन्] इस नाम का  
एक दार्शनिक विद्वान् (भा ७, १०) ।

कालोय षु [कालोट] समुद्र विशेष जो  
घातकी-खण्ड द्वीप को चारों तरफ घिर कर  
स्थित है (नम ६७) ।

काव } पु [दे] ? काँवर, वहाँगी, बोरु  
कावड } होनेके लिए तरानुमा एक वस्तु,  
इसमें दोनों ओर सिक्कर लटकाने जाते हैं  
(जीव ३, पउम ७५, ५२) । °कोटिच पु  
[°कोटिक] काँवर से भार होनेवाला  
(अणु) । देवो काय = (दे) ।

कावडि } स्त्री [दे] काँवर (कुप्र १२१,  
कावोडि } २४४, दम ४, १ टी) ।

कावडिअ पु [दे] वैवचिक, काँवर से भार  
होनेवाला (पठम ७५, ५२) ।

कावध पुं [कावधय] एक महाग्रह, प्रहावि-  
ष्टायक देव-विशेष (राज) ।

कावल्लिअ वि [दे] असहन, असहिष्णु (दे  
२, २८) ।

कावल्लिअ वि [कावल्लिक] कवल-प्रक्षेप रूप  
आहार (भगः सग १८१) ।

कावाल्लिअ पु [कापालिक] वाम-मार्गी, अघोर  
सम्प्रदाय का मनुष्य (मुपा १७४, ३६७, दे  
१, २१, प्रवो ११५) ।

कावाल्लिआ } स्त्री [कापालिकी] कापालिक-  
कावाल्लिणी } धृतवाणी स्त्री (गा १०८) ।

कावट्टि न [कापिट्ट] देव-विमान-विशेष (सम  
२७, पठम २०, २३) ।

काविलि न [कापिल] ? साख्य-दर्शन (सम्म  
१४५) । २ वि साख्य मत का अनुयायी  
(श्रीप) ।

काविलिय वि [कापिलीय] ? कपिल मुनि-  
सन्ध्वी । २ न कपिल-मुनि के वृत्तान्तवाता  
एक ग्रन्थ, 'उत्तराध्ययन' सूत्र का आठवाँ  
अध्ययन (सम ६४) ।

काविमायण देवो कविमायण (जीव ३) ।

कावी स्त्री [दे] नीलवर्णवाली, हरा रंग की  
चीज (दे २, २६) ।

कावुरिस देवो कापुरिस (न ३७५) ।

कावेअ न [कापेय] वानरपन, वञ्चनता  
(अचु ६२) ।

कावोय वि [दे] काँवर बहन करनेवाला  
(अणु ४६) ।

काम देवो कड्ड = कृप् । कासइ (पड्ड) ।

काम अक [काम्] ? कहरना, रोग विशेष  
से खराब आवाज करना । २ कासना, खाँसी  
को आवाज करना । ३ खोन्कार करना । ४  
छोक खाना । वट्ट कासत, काममाण (पएह  
१, ३—पत्र ५४, आचा) । संकृ कासित्ता  
(जीव ३) ।

कास पु [काश, °स] ? रोग विशेष, खाँसी  
(गाया १, १३) । २ दुष्ण-विशेष, कास, काप-  
कुमुभव मन्ने नुनिप्पल जम्म-जीविय नियय'  
(उप ७२८ टी), 'कानुकुमुभव विहल' (आप  
५८) । ३ उसका फूल जो सफेद और शोभाय-  
मान होता है, 'ता तव्य नियइ धूलि समहर-  
हरहानकाससकाम' (मुपा ४२८, कुमा) । ४  
ग्रह विशेष, ग्रह-देव-विशेष (ठा २, ३) । ५  
रस (ठा ७) । ६ ससार, जगत् (आचा) ।

कास देवो कस = काम्य (हे १, २६, पड्ड) ।

कासंकस वि [कासङ्क] प्रमादी, ससार में  
आनक्त (आचा) ।

कासग देवो कामय, 'जेण रोहति बीजाई,  
जेण जीवति कामगा' (निड्ड १) ।

कामण न [कासन] खोन्कारना, खाट्कार  
(श्रीप २३५) ।

काममडग पुं [काममर्दक] वनस्पति-विशेष,  
शुच्य-विशेष (पएण १—पत्र ३२) ।

कासय } पु [कर्पक] कृपीवल, कित्तान (दे  
कासव } १, ८७, पात्र),

'जह वा लुणाइ नम्साई,  
कामवो परिणयाईं दित्तम्मि ।

तह नूयाईं कयंतो, वञ्चुमहावो उमो जम्हा'  
(मुपा ६५१) ।

कासय पुं [काश्यप] ? इस नाम का एक  
ऋषि (प्रामा) । २ हरिण की एक जाति ।  
२ एक जात की मछली । ४ दक्ष प्रजापति  
का जामाता । ५ नि. दाह पीनेवाला (हे १,  
४२, पड्ड) ।

कासय न [काश्यप] ? इस नाम का एक  
गोत्र (ठा ७, गाया १, १, कप्प) । २ पु  
भगवान् ऋषभदेव का एक पूर्व पुरुष । ३ वि  
काश्यप गोत्र में उत्पन्न, काश्यप-गोत्रीय (ठा  
७—पत्र ३६०, उत ७, कप्प, सूत्र १, ६) ।  
४ पुं. नापित, हनाम (भग ६, १०, आचम) ।  
५ उम नाम का एक गृहस्थ (श्रत १८) । ६  
न इस नाम का एक 'अताडवसा' सूत्र का  
अध्ययन (श्रत १८) ।

काम्यनालिया स्त्री [काश्यपनालिका] श्री-  
पर्णीकन (आचा २, १, ८, ६, दम ५, २,  
२१) ।

काम्यविज्जया स्त्री [काश्यपीया] जैन मुनियों  
की एक शाखा (कप्प) ।

कासवी स्त्री [काश्यपी] ? श्रियवी, धरित्री  
(कुमा) । २ कश्यप-गोत्रीया स्त्री (कप्प) ।  
°रइ स्त्री [°रति] भगवान् सुमतिनाय की  
प्रथम शिष्या (सम १५२) ।

कासा स्त्री [कृशा] दुर्वल स्त्री (हे १, १२७-  
पड्ड) ।

कासाइया } स्त्री [कापायी] कपाय-रंग से  
कासाई } रंगी हुई साड़ी, लाल साड़ी (कप्पः  
उवा) ।

कासाय वि [कापाय] कपाय-रंग में रंगा  
हुआ वस्त्रादि (गड्ड) ।

कासार न [कासार] ? तनाव, खोटा सरोवर  
(मुपा १६६) । २ पक्षाघ-विशेष, कँसार  
(स १८६) । ३ पु समूह, जत्या (गड्ड) ।  
४ प्रदेश, त्यान (गड्ड) । °भूमि स्त्री  
[°भूमि] नितम्ब-प्रदेश (गड्ड) ।

कासार न [दे] वातु-विशेष, सीसपत्रक (दे  
२, २७) ।

कासि पुं [कासी] ? देश-विशेष, काशी  
जिला, 'कासित्ति जणवसो' (मुपा ३१, उत  
१८) । २ काशी देश का राजा (कुमा) ।

३ स्त्री काशी नगरी, बनारस शहर (कुमा) ।  
 °पुर न [°पुर] काशी नगरी, बनारस शहर  
 (पउम ६, १३७) । °राय पुं [°राज] काशी  
 देश का राजा (उत्त १८) । °धुं पुं [°प]  
 काशी देश का राजा (पउम १०४, ११) ।  
 °वड्डण पुं [°वर्धन] इस नाम का एक  
 राजा, जिमने भगवान् महावीर के पास दोसा  
 लो थी (ठा ८—पत्र ४३०) ।  
 कासिअ न [दे] १ सूक्ष्म वस्त्र, वारीक  
 कपड़ा । २ सफेद वस्त्र (दे २, ५६) ।  
 कासिअ न [कासित] छोक, धुत् (राज) ।  
 कासिअ न [दे] काकम्वल-नामक देश (दे  
 २, २७) ।  
 कासिअ वि [कासिक] खासी रोगवाला (विपा  
 १, ७—पत्र ७२) ।  
 कासी स्त्री [काशी] काशी, बनारस (राया  
 १, ८) । °राय पु [राज] काशी का राजा  
 (पिंग) । °स पुं [°श] काशी का राजा  
 (पिंग) । °सर पु [°श्वर] काशी का राजा  
 (पिंग) ।  
 काह सक [कथय्] कहना । कहियते (सूअ  
 १, १३, ३) ।  
 काहर देखो काहार (दस ४, १ टी) ।  
 काहल वि [दे] १ मृदु, कोमल । २ ठग, धूर्त  
 (दे २, ५८) ।  
 काहल वि [कातर] कातर, डरपोक, भवोर  
 (हे १, २१४, २५४) ।  
 काहल पुन [काहल] १ वाय-विशेष (सुर ३,  
 ६६, श्रौप; रादि) । २ अव्यक्त भावाज (पएह  
 २, २) ।  
 काहला स्त्री [काहला] वाय-विशेष, महा-  
 ढक्का (विक्र ८७) ।  
 काहलिया स्त्री [काहलिका] आभूषण-विशेष  
 (पव २७१) ।  
 काहली स्त्री [दे] तरुणी, युवती (दे २, २६) ।  
 काहली स्त्री [दे] १ खचं करने का धान्यादि ।  
 २ तवा, जिसपर पूरी या पूड़ी बगैरह पकायी  
 जाती है (दे २, ५६) ।  
 काहार पुं [दे] कहार, एक जाति जो पानी  
 भरने और डोली बगैरह ढोने का काम करती  
 है (दे २, २७, भवि) ।  
 काहार पुन [दे] काँवर, वहाँगी (सुअ १०, ६) ।

काहावण पुं [कार्पापण] सिक्का-विशेष (हे  
 २, ७१, पएह १; २, पड्, (प्राप्र) ।  
 काहिय वि [काथिक] क्या-कार, वार्ता करने-  
 वाला (वृह १) ।  
 काहिल पु [दे] गोपाल, ग्वाला, स्त्री. ला°  
 (दे २, ३८) ।  
 काहिलिआ स्त्री [दे] तवा, जिसपर पूरी आदि  
 पकायी जाती है (प्राप्र) ।  
 काहीअ देखो काहिय (गच्छ ३, ६) ।  
 माहीइटाण न [कारिण्यतिदान] प्रत्युपकार  
 की आशा से दिया जाता दान (ठा १०) ।  
 काहे म [कदा] कब, किम समय ? (हे २,  
 ६५, अत २४, प्राप्र) ।  
 काहेणु स्त्री [दे] गुआ, लाल रत्ती (दे २,  
 २१) ।  
 कि देखो किं (हे १, २६, पड्) ।  
 कि सक [कु] करना, बनाना, 'डुकिय करणे'  
 (विसे ३३००) । कबहु. किजत (सुर १,  
 ६०, ३, १४, ५६) ।  
 किअ देखो कय = इत (काप्र ६२५, प्रासू १५,  
 धम्म २४, मै ६५, वजा ४) ।  
 किअ देखो किअ = कृप (पड्) ।  
 किअत वि [कियत्] कितना (सण) ।  
 किअत देखो कयत (अधु ५६) ।  
 किआडिआ स्त्री [कुकाटिका] गला का उन्नत  
 भाग (प्राप्र) ।  
 किड स्त्री [कृति] कृति, क्रिया, विधान (पड्,  
 प्राप्र; उव) । °कम्म न [°कर्मन्] १ वन्दन,  
 प्रणमन (सम २१) । २ कार्य-करण (भग  
 १४, ३) । ३ विग्रामणा (व्यव० गा० ६२) ।  
 किं स [किम्] कौन, क्या, क्यों, निन्दा,  
 प्रश्न, अतिशय, अल्पता और सादृश्य को  
 बतलानेवाला शब्द (हे १, २६, ३, ५८,  
 ७१, कुमा; विपा १, १; निचू ६३), 'किं  
 वुल्लति मणीमो जाउ सहस्सेहिं घिर्पति'  
 (प्रासू ४) । °उण म [°पुन] तव फिर,  
 फिर क्या ? (प्राप्र) ।  
 किंकत्तव्वया देखो किंकायत्तया (आचा २,  
 २, ३) ।  
 किंकम्म पु [किंकर्मन्] इस नाम का एक  
 गृहस्थ (अंत) ।

किंकर पुं [किङ्कर] नौकर, चाकर, दास (सुपा  
 ६०, २२३) । °सच्च पुं [°सत्य] १ पर-  
 मेधर परमात्मा । २ अच्युत, विष्णु (अधु  
 २) ।  
 किंकरी स्त्री [किङ्करी] दासी, नौकरानी  
 (कप्प) ।  
 किंकाइअ देखो केकाइय (अणु २१२) ।  
 किंकायव्वया स्त्री [किंकर्त्तव्यता] क्या  
 करना है यह जानना । °मूढ वि [°मूढ]  
 किंकर्त्तव्य-विमूढ, हक्कावका, भौंचका, वह  
 मनुष्य जिसे यह न सूझ पड़े कि क्या किया  
 जाय (महा) ।  
 किंकार पुन [किङ्कार] अव्यक्त शब्द-विशेष  
 (सिदि ५४१) ।  
 किंकिअ वि [दे] सफेद, श्वेत (दे २, ३१) ।  
 किंकिञ्जड वि [किंकृत्यजड] हक्कावका,  
 वह मनुष्य जिसे यह न सूझ पड़े कि क्या  
 किया जाय (आ २७) ।  
 किंकिणिआ स्त्री [किङ्किणिका] सुद्र-घरिडका,  
 करवनी (सुपा १५६) ।  
 किंकिणी स्त्री [किङ्किणी] ऊपर देखो (सुपा  
 १५४, कुमा) ।  
 किंकिलि देखो ककिलि (विचार ४६१) ।  
 किंगिरिड पुं [किङ्गिरिट] सुद्र कीट-विशेष,  
 श्रोत्रिय जीव की एक जाति (राज) ।  
 किंच म [किञ्च] समुच्चय-युक्त अव्यय, और  
 भी, दूसरा भी (सुर १, ४०, ४१) ।  
 किंचण न [किञ्चन] १ द्रव्य-हरण, चोरी  
 (विसे ३४५१) । २ म कुछ, किञ्चित् (वव  
 २) ।  
 किंचण न [किञ्चन] द्रव्य, वस्तु (उत्त ३२,  
 ८, सुव ३२, ८) ।  
 किंचहिय वि [किञ्चिदधिक] कुछ ज्यादा  
 (सुपा ४३०) ।  
 किंचि म [किञ्चिन्] अल्प, ईपत्, थोडा  
 (जी १, स्वप्न ४७) ।  
 किंचिम्मत्त वि [किञ्चिन्मात्र] स्वल्प, बहुत  
 थोडा, यत्किञ्चित् (सुपा १४२) ।  
 किंचूण वि [किञ्चिदून] कुछ कम, पूर्ण-प्राय  
 (श्रौप) ।  
 किजक पु [किञ्जत्क] पुण्य-रेणु, पराग  
 (राया १, १) ।

किञ्जल्प पु [दे] शिरीष-वृक्ष, किञ्ज का पेड़ (दे २, ३१)।

किण्व (जी)। अ [किमिदम्, किमेतन्] यह क्या ? (पङ्, कुमा)।

किन्तु अ [किन्तु] परन्तु नेकिन (सुर ४, ३७)।

किंशुघ्न देखो किंशुघ्न (राज)।

किदिय न [केन्द्र] १ वस्तु का मध्य-स्थल। २ ज्योतिष में दृष्ट लग्न से पहला, चौथा, सातवाँ और दसवाँ स्थान, 'किदियठाणद्विप-गुणम्' (मुपा ३६)।

किट्टुअ पु [कण्टुक] कण्टुक, गेद (भवि)।

किधर पु [दे] छोटी मछली (दे २, ३२)।

किनर पु [किन्नर] १ व्यन्तर देवों की एक जाति (परह १, ४)। २ भगवान् धर्मनाथ जी के शान्तदेव का नाम (सति ८)। ३ चमण्ड की रथमेना का श्रविपति देव (ठा ५, १)। ४ एक इन्द्र (ठा २, ३)। ५ देव-गन्धर्व, देव-गायक (कुमा)। ६ कठ पु [कण्ठ] किन्नर के कण्ठ जितना बड़ा एक मणि (जीव ३)।

किनरी स्त्री [किन्नरी] किन्नर देव की स्त्री (कुमा)।

किन्तु अ [किन्तु] पूर्वपद, आक्षेप, आशंका का सूचक अव्यय (वव १)।

किपय वि [दे] कृपाण, कर्तृ (दे २, ३१)।

किपाग पु [किम्पाक] १ वृक्ष-विशेष, 'हुति मुहि क्षिप महुरा विजया किपागभूच्छफल व' (पुष्प ३६२, श्रौष)। २ न उसका फल, जो देवने में श्रौर-त्राद में मुन्दर, परन्तु खाने में प्राण वा नाश करता है, 'विपाफलोवमा विजया' (सुर १२, १३८)।

किपि अ [किमपि] कुछ भी (प्रासू ६०)।

किपुरिस पु [किपुरुष] १ व्यन्तर देवों की एक जाति (परह १, ४)। २ एक इन्द्र, किन्नर-निकाय के उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३)। ३ वैरोचन वनोन्द्र की रथमेना का श्रविपति देव (ठा ५, १—प्र ३०२)।

०कंठ पु [कण्ठ] मणि की एक जाति, जो किपुरुष के कण्ठ जितना बड़ा होता है (जीव ३)।

किवोड वि [दे] स्तनित, गिरा हुआ, मुला हुआ (२, ३१)।

किमञ्ज वि [किमञ्ज] अज्ञा, नि मार (परह २, ४)।

किञ्जयो स्त्री [किञ्जयो] जनपति, जनरथ (हम्मीर ३६)।

किमारु पु [किगारु] सम्य शूक, सम्य का तीक्ष्ण श्रम भाग (दे २, ६)।

किंशुघ्न न [किस्तुघ्न] ज्योतिष-ग्रन्थ एक न्यर कण (दिने ३५०)।

किमुअ पु [किशुक] १ पनाग का पेड़, ट्यू, टाक (सुर ३ ४६)। २ न पलाय का पुत्र (हे १, २६, ८६)।

किक्किटि पु [दे] मर्ष, साँप (दे २, ३०)।

किक्किवा स्त्री [किक्किवा] नगरी विशेष (से १४, ५५)।

किक्किधि पु [किक्किधि] १ पर्वत-विशेष (परम ६, ४५)। २ दस नाम का एक राजा (परम ६, १५४, १०, २०)। ३ पुर न [पुर] नगर विशेष (परम ६, ४५)।

किच्च वि [कृत्य] १ करने योग्य, कर्तव्य, फरज (मुपा ४६५, कुमा)। २ वन्दनीय, पूजनीय, 'न पिट्टो न पुरयो नेव किच्चाण पिट्टो' (उत्त ३)। ३ पु गृहस्थ (सूत्र १, १, ४)। ४ न शास्त्रोक्त अनुष्ठान, क्रिया, कृति (आचा २ २, २, सूत्र १, १, ४)।

किच्चत नि [कृत्यमान] १ छिन्न किया जाता, काटा जाना। २ पीड़ित किया जाना, नताया जाता (राज)।

किच्चण न [दे] प्रसानन, घोना, 'हरिप्रच्छेयण छप्पडयन्धण किच्चण च पोत्ताण' (मोद १६८—पर ७२)।

किच्चा स्त्री [कृत्या] १ काटना, कर्तन (उप पु ३५६)। २ क्रिया, काम, धर्म। ३ देव वगैरह की मूर्ति का एक नेद। ४ जाह्नगरी, जाहू। ५ रोग-विशेष, महामारी का रोग (हे १, १२८)।

किच्चा देखो कर = कृ।

किच्चि स्त्री [कृत्ति] १ मृग वगैरह का चमड़ा। २ चमड़े का वस्त्र। ३ भूजपत्र, भोजपत्र। ४ कृत्तिका नक्षत्र (हे २, १२, ८६, पङ्)।

०पाउरण पु [प्रायण] महादेव, शिव (कुमा)। ०हर पु [धर] महादेव, शिव (पङ्)।

किच्चिरं अ [किच्चिरम्] कितने समय तक, कब तक ? (उप १२८ टी)।

किच्च्य न [कृच्च्य] १ दुःख कष्ट (ठा ५, १)। २ वि. कष्ट-नाच्य, कष्ट-शुक्त (हे १, १२८)। ३ क्रि. दुःख, मुञ्चिन मे (सुर ८, १४८)।

किञ्ज वि [क्रेय] कपरीदेव योग्य, 'ग्रन्थिन् किञ्जमेव वा' (दस ७)।

किञ्जत देवां कि = कृ।

किञ्जअ नि [कृत] किया गया, निर्मित (पिा)।

किट्ट मक [कीर्त्तय] १ स्तनाघ करना, स्तुति करना। २ वर्णन करना। ३ करना, बोलना। किट्ट, किट्टे (आचा, भग)। यत्, किट्टमाण (पि २८६)। सट्ट किट्टत्ता, निट्टित्ता (उत्त २६, वप्प)। हेट्ट किट्टित्ता (वप्प)।

किट्ट न्नीन [किट्ट] १ धातु का मन, मूल (उप ५३२)। २ रग विशेष (उर ६, ५)। ३ तेज, धी वगैरह का मूल। स्त्री ०ट्टी (पना ३३)।

किट्टण देवो कित्तण (वृह ३)।

किट्टि न्नी [किट्टि] १ अग्नीहरण-विशेष, विभाग-विशेष, 'द्रुव्वविसेहीए अणुभागेणु-राविमपण किट्टि' (पंच १२, आनम)।

किट्टिय वि [कीर्त्तित] १ वर्णित, प्रगणित (सूत्र २, ६)। २ प्रतिपादित, कथित (सूत्र २, २, ठा ७)।

किट्टिया स्त्री [कीर्त्तिका] वनस्पति-विशेष (परए १, भा ७, २)।

किट्टिम न [किट्टिस] १ बली, चर्मो तिन आदि का तैल रहित द्रव्य (अणु)। २ एक प्रकार का सूत, सूता (अणु, आवम)।

किट्टिस न [किट्टिस] १ ऊन आदि का बाकी बचा हुआ अंश। २ उससे बना हुआ सूता। ३ ऊन, ऊँट के बाल आदि की मिलावट का सूता (अणु ३४)।

किट्टी देवो किट्ट = कृट्ट।

किट्टीक्य नि [किट्टीक्य] आपस में मिला हुआ, एकाकार, जैसे सुचरण आदि का किट्ट

उममें मिल जाता है उम तरह मिला हुआ (उव) ।

किट्ट वि [क्लिष्ट] क्लेश-युक्त (भग ३, २, जीव ३) ।

किट्ट वि [कृष्ट] जोता हुआ, हल-विदारित (सुर ११, ५६, भग ३, २) । २ न. देव-विमान विशेष, 'वे देवा सिरिवच्छ मिरिदाम-वंड मल्लं किट्ट ( ? ट्ट ) चावोएणय अर-एणवडिनगं विमाण देवत्ताए उववएणा' (सम ३६) ।

किट्टि स्त्री [कृष्टि] १ कर्पण । २ खोंचाव, आनरण । ३ देवविमान-विशेष (सम ६) । °कूड न [°कूट] देवविमान-विशेष (सम ६) । °घोस न [°घोप] विमान विशेष (सम ६) । °जुत्त न [°युक्त] विमान-विशेष (सम ६) । °उक्कय न [°ध्वज] विमान विशेष (सम ६) । °पपभ न [°प्रभ] देवविमान-विशेष (सम ६) । °वण्ण न [°वर्ण] विमान-विशेष (सम ६) । °सिग न [°शृङ्ग] विमान-विशेष (सम ६) । °सिट्ठ न [°शिष्ट] एक देव-विमान (सम ६) ।

किट्टियावत्त न [कृष्ट-यावत्त] देवविमान-विशेष (सम ६) ।

किट्टुत्तरवडिसग न [कृष्टयुत्तरावत्तसक] इत्त नाम एक देव-विमान, देव-भवन (सम ६) ।

किट्टग वि [क्लीडक] क्लीडा करनेवाला (सूत्र १, ४, १, २ टी) ।

किट्टि पु [किरि] सूकर, सूअर (हे १, २५१, पइ) ।

किट्टिकिडिया स्त्री [किट्टिकिटिका] सूखी हड्डी की आवाज (गाया १, १—पत्र ७४) ।

किट्टिभ पु [किट्टिभ] रोग विशेष, एक प्रकार का सुद्र कोढ़ (लहुअ १५, भग ७, ६) ।

किडिया स्त्री [दे] खिडकी, छोटा द्वार-(स ५८३) ।

किड्डु अक [क्लीड] खेलना, क्लीडा करना । वडु किड्डुत (पि ३६७) ।

किड्डुकर वि [क्लीडाकर] क्लीडा-कारक (श्रौप) ।

किड्डा स्त्री [क्लीडा] १ क्लीडा, खेल (विपा १, ७) । २ वाल्यावस्था (ठा १०—पत्र ५१६) ।

किड्डाविद्या स्त्री [क्लीडिका] क्लीडन घात्री, बालक को खेल-कूद करानेवाली दाई (गाया १, १६—पत्र २११) ।

किट्टि वि [दे] १ समोग के लिए जिसको एकान्त स्थान में लाया जाय वह (वव ३) । २ स्यविर, वृद्ध (वृह १) ।

किट्टिण न [किट्टिण] सन्यासियो का एक पात्र, जो वाम का बना हुआ होता है (भग ७, ६) ।

किण सक [क्ली] खरीदना । किराइ (हे ४, ५२) । वडु 'मे किण किरावेमाणे हए घायमाणे' (सूत्र २, १) । किणत (सुपा ३६६) । चडु किणित्ता (पि ५८२) । प्रयो किरावेइ (पि ५५१) ।

किण पु [किण] १ घर्पण-त्रिह, घर्पण की निशानी (गडड) । २ मास-ग्रथि । ३ सूखा घाव (सुपा ३७०, वत्ता ३६) ।

किणइय वि [दे] शोभित, विनूषित (पउम ६२, ६) ।

किणय न [क्रयण] कीटना, खरीद, क्रय (उप पृ २५८) ।

किणा देखो किण्णा (प्राप्र, हे ३, ६६)

किणि वि [क्वचिन्] खरीदनेवाला (सम्बोध १६) ।

किणिकिण अक [किणिकिणय] किरा-किण आवाज करना । वडु, किणिकिणित (श्रौप) ।

किणिय वि [क्लीत] कीना हुआ, खरीदा हुआ (सुपा ४३४) ।

किणिय पु [किणिक] १ मनुष्य की एक जाति, जो बाजा बनाती और बजाती है (वव ३) । २ रस्सी बनाने का काम करने-वाली मनुष्य जाति; 'किणिया उ वरत्ताओ वलित्ति' (पडु) ।

किणिय न [किणित] वाद्य-विशेष (राय) ।

किणिया स्त्री [किणिका] छोटा फोडा, फुनसी, 'अन्नेवि सइ महियलनिसीय-गुप्पन्नकिणियपोंगित्ता ।

मनिणएणरकप्पडोच्छइयविग्गहा

कहवि हिंडित्ति' (स १८०) ।

किणिस सक [शाणय] तीक्ष्ण करना, तेज करना । किरिणसइ (पिण) ।

किणो अ [किमित्ति] क्यों, किसलिए ? (दे २, ३१, हे २, २१६, पाअ, गा ६७, महा) ।

किण्ण वि [क्लीण] १ उल्कीरण, खुदा हुआ- 'उवलकिरणव्व कट्टघडियव्व' (सुपा ५७१) । २ क्षिप्त, फेंका हुआ (ठा ६) ।

किण्ण पु [किणव] १ फलवाला वृक्ष विशेष, जिससे दारु बनता है (गडड, आचा) । २ न मुरा बीज, किरव-वृक्ष के बीज, जिसका दारु बनता है (उत्त २) । 'सुरा स्त्री [°सुरा] किरव-वृक्ष के फल से बनी हुई मदिरा (गडड) ।

किण्ण वि [दे] शोभमान, राजमान (दे २, ३०) ।

किण्ण अ [किनम्] प्ररनायक अव्यय (उवा) ।

किण्णर देखो किंनर (ज १, राय, इक) ।

किण्णा अ [कथम्] क्यों, क्यों कर, कैसे ? 'किरण लद्धा किरणा पत्ता' (विपा २, १—पत्र १०६) ।

किण्णु अ [किंनु] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ प्ररन । २ वितक । ३ साहश्य । ४ स्थान, स्थल । ५ विकल्प (उवा; स्वप्न ३४) ।

किण्ह देखो कण्ह (गा ६५, गाया १, १, उर ६, ५, परण १७) ।

किण्ह न [दे] १ वारीक कपडा । २ सफेद कपडा (दे २, ५६) ।

किण्हग पु [दे] वर्षाकाल में घटा आदि में होनेवाली एक तरह की काई (जीवस ३६) ।

किण्हा देखो कण्हा (ठा ५, ३—पत्र ३५१, कम्म ४, १३) ।

किंतव पु [कित्तव] धूतकर, जूआरी (दे ४, ८) ।

कित्त देखो किच्च (सक्षि ५) ।

कित्त देखो किट्ट = कीर्त्तम् । भवि कित्तइस्स (पडि) । सक, कित्तइत्ताण (पच ११६) ।

कित्तण न [कीर्त्तन] १ श्लाघा, स्तुति, 'तव य जिणुत्तम संति कित्तण' (अजि ४, से ११, १३३) । २ वर्णन, प्रतिपादन । ३ कथन, उक्ति (विसे ६४०, गडड; कुमा) ।

कित्तणा स्त्री [कीर्त्तना] कीर्त्तन, वर्णन, प्रशंसा (वेइय ७४८) ।

कित्तय वि [कीर्त्तक] कीर्त्तन-कर्त्ता (पव २१६ टी)।

किच्चोरिअ देवो कत्तवीरिअ (ठा ८)।

कित्ता देवो किच्चा = कृत्या (प्राह ८)।

कित्ति स्त्री [कीर्त्ति] ? यश, कीर्त्ति, नुस्सयाति (श्रीप, प्रानू ४३, ७४, ८०)। २ एक विद्या-देवी (पउम ७, १४१)। ३ वेसरि-द्रह की अविष्ठात्री देवी (ठा २, ३—पय ७०)। ४ देव-प्रतिमा-विशेष (गाया १, १ टी—पय ४३)। ५ ग्लाघा, प्रशसा (पव ३)। ६ नीलवन्त पर्वत का एक शिखर (जं ४)। ७ सौवर्म देवलोक की एक देवी (निर)। ८ पुं इस नाम का एक जैन मुनि, जिमके पाम पांचवें बलदेव ने दीक्षा ली थी (पउम २०, २०५)। ९ कर वि [कर] ? यशस्कर, व्याति-कारक (गाया १, १)। २ पुं भगवान् आदिनाथ के एक पुत्र का नाम (राज)। ३ चद पु [चन्द्र] नृप-विशेष (वम्म)। ४ धम्म पुं [धर्म] इस नाम का एक राजा (दंस)। ५ धर पु [धर] ? नृप-विशेष (तदु)। २ एक जैन मुनि, दूसरे बलदेव के गुरु (पउम २०, २०५)। पुरिस पु [पुरुष] कीर्त्ति-प्रदान पुरुष, वासुदेव वगैरह (ठा ९)। ६ भ वि [भत्] कीर्त्ति-युक्त। ७ भई स्त्री [भती] ? एक जैन साध्वी, (आक)। ८ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एक स्त्री (उत्त १३)। ९ य वि [य] कीर्त्ति-कर, यशस्कर (श्रीप)।

कित्ति स्त्री [कृत्ति] चर्म, चमडा; 'कुत्तो अम्हाए वग्घकित्ती य' (काप्र ८६३, ता ६४०, वज्जा ४४)।

कित्तिम वि [कृत्तिम] वनावटी, नकली (सुपा २४, ६१३)।

कित्तिय वि [कीर्त्तित] ? उक्त, कथित; 'कित्तियवदियमहिया' (पठि)। २ प्रशंसित, ग्लाघित (ठा २, ४)। ३ निरूपित, प्रति-पादित (तदु)।

कित्तिय वि [कियत्] कितना (गठड)।

किन्न वि [किन्न] आद्रं, गोला (हे ४, ३२६)।

किन्ह देखो कण्ह (कप्प)।

क्रिपाह वि [दे] स्वनित, गिरा हुआ (पह)।

किच्चिस न [किच्चिय] ? पाप, पातक (पएह १, २)। २ मांस, 'निग्गयं च से वीयपासेणं किच्चिस' (उ २६३)। ३ पु. चाण्डाल-स्थानीय देव-जाति (भग १२, ५)। ४ वि मलिन। ५ अव्यय, नीच (उत्त ३)। ६ पापी, दुष्ट (धर्म ३)। ७ कर्तुर, चितववरा (तंदु)।

किच्चिन्निय पु [किच्चिन्निय] ? चाण्डाल-स्थानीय देव-जाति (ठा ३, ४—पय १६२)। २ केवल वेपवारी साधु (भग)। ३ नि. अव्यय, नीच (सूत्र १, १, ३)। ४ पाप-फल को नोगनेवाला दरिद्र, पणु वगैरह (गाया १, १)। ५ भाएह-वेष्टा करनेवाला (श्रीप)।

किच्चिसिया स्त्री [केच्चिपिकी] ? नावना-विशेष, धर्म-गुरु वगैरह की निन्दा करने की श्रादत (धर्म ३)। २ केवल वेप-वारी साधु की वृत्ति (भग)।

किम्म (अप) अ [कथम्] क्यों, कैसे ? (हे ४, ४०१)।

किम्मण देवो किवण (आचा)।

किम्मस्स पु [किम्मश्च] नृप-विशेष, जिसने इन्द्र को संग्राम में हराया था और श्राप लगने से जो मरकर अजगर हुआ था (निक्ख १)।

किमी पु [कृमि] ? क्षुद्र जीव, कीट-विशेष (पएह १, ३)। २ पेट में, फुफ्फुस में और ववासीर में उत्पन्न होनेवाला जन्तु-विशेष (जी १५)। ३ द्रोत्रिय कीट विशेष (पएह १, १—पय २३)। ४ य न [य] कृमि-जन्तु से उत्पन्न वस्त्र; 'कोसेज्जपट्टमाई ज, किमियं तु पवुच्चइ' (पचना)। ५ राग, राय पु [राग] किरमिजी का रंग (कम्म १, २०, दे २, ३२, पएह २, ४)। ६ रासि पुं [रासि] वनस्पति विशेष (पएण १—पय ३६)।

किमिहरवसण [दे] देवो किमिहरवसण (पह)।

किमिच्छय न [किमिच्छक] इच्छानुसार दान (गाया १, ८—पय १५०)।

किमिण वि [कृमिमत्] कृमि-युक्त, 'किमिणवहुदुरनिग्घेनु' (पएह २, ५)।

किमिराय वि [दे] लाक्षा से रक्त (दे २, ३२)।

किमिहरवसण न [दे] कीशेय-वन्ध, शंभमी वस्त्र (दे २, ३३)।

किमु अ [किमु] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ प्रग्न। २ वितर्क। ३ निन्दा। ४ निषेध (हे २, २१७, पिग)।

किमुय अ [किमुत्] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ प्रग्न। २ विषय। ३ वितर्क। ४ अतिशय (हे २, २१८), 'अमरनरायमहिय ति पूय्य तेहि, किमुय सेमेहि' (विमे १०६१)। किम्मिय न [दे. किम्मित] जटता, जाग्य (राज)।

किम्मोर वि [किम्मोर] ? कर्तुर, कवरा (पात्र)। २ पुं राक्षस-विशेष, जिनकी भोममेन ने माग था (वेरो ११७)। ३ वश-विशेष, 'जाया किम्मोरवमे' (रभा)।

किय देवो कीय (विउ ३०६)।

कियत वि [कियत्] कितना (नम्मत्त २२८)।

नियत्थ देवो कयत्थ (मवि)।

किच्चय देवो कटअव (उत्त ७२८ टी)।

किया देवो किरिया, 'हय नाणं कियाहीणं' (हे २, १०४), 'मग्गणुसारो सद्धो पल्ल-वणिज्जो कियावरो चेव' (उप १६६, विसे ३५६३ टी, कप्प)।

कियाडिया स्त्री [दे] कानवृष्टी, कान का ऊपर भाग (वव १)।

कियाण देवो कर = कृ।

कियाणग न [कियाणक] किराना, नमक, मसाला आदि वेचने योग्य चीजें (नुर १, ६०)।

किर पुं [दे] सूकर, सूअर (दे २, ३०, पड)।

किर अ [किल] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ संभावना। २ निरक्षय। ३ हेतु, निरिचत कारण। ४ वात्तां प्रसिद्ध अर्थ। ५ अक्षि। ६ अलोक, अमत्य। ७ संशय, सदेह (हे २, १८६, पड; गा १२६, प्रानू १७, दस १)। ८ पाद पूति में भी इसका प्रयोग होता है (कम्म ४, ७६)।

किर सक [क] ? फेंकना। २ पसारना, फैलाना। ३ विखेरना। वरु किरंत (से ४, ५८, १४, ५७)।

किरण पुन [किरण] किरण, रश्मि, प्रना (सुपा ३५१, गठड; प्रासू ८२)।

किरणिल्ल वि [ किरणवत् ] किरणवाना, तेजस्वी (सुर २, २४२) ।

किराड } पुं [ किरात ] १ भनायं देश विदेश किराय } (पव १४८) । २ मील, एक जगली जाति (सुर २, २७, १८०, सुपा ३६१, हे १, १८३) ।

किरात (शौ) देखो किराय (प्राक् ८६) ।

किरि देखो किर = किल (सिरि ८३२, ८३४) ।

किरि पुं [ किरि ] भालू की आवाज; कत्यइ किरिति कत्यइ हिरिति कत्यइ छिरिति रिच्छाए सद्दो (पचम ६४, ४५) ।

किरि पुं [ किरि ] सूकर, सूअर (गडड) ।

किरिआण देखो क्रायाण 'जम्मंतराहिअपुन्न-किरिआणो' (कुलक २१) ।

किरिइरिया } स्त्री [ दे ] १ कर्णोपकरणिका, किरिकिरिआ } एक कान ने दूसरे कान गई हुई बात, गप । २ कुतूहल, कौतुक (दे २, ६१) ।

किरिकिरिया स्त्री [ दे ] वाद्य-विशेष, बाँस आदि की कम्वा—लकड़ी से बना हुआ एक प्रकार का बाजा (आचा २, ११, १) ।

किरिचण देखो कित्तण (नाट—माल ६७) ।

किरिया स्त्री [ क्रिया ] १ क्रिया, कृति, व्यापार, प्रयत्न (सूअ २, १, ठा ३, ३) । २ शास्त्रोक्त अनुष्ठान, धर्मानुष्ठान (सूअ २, ४, पव १४६) । ३ सावध व्यापार (भग १७, १) । ४ द्वाण न [ स्थान ] कर्मवन्व का कारण (सूअ २, २, भाव ४) । ०वर वि [ पर ] अनुष्ठान कुशल (पड) । ०वाड वि [ वादिन् ] १ आस्तिक, जीवादि का अस्तित्व माननेवाला (ठा ४, ४) । २ केवल क्रिया से ही मोक्ष होता है ऐसा माननेवाला (सम १०६) । ०विसाल न [ विशाल ] एक जैन ग्रन्थाश, तेरहवाँ पूर्व-ग्रन्थ (सम २६) ।

किरीड पुं [ किरीट ] मुकुट, शिरो भूषण (प्राप्र) ।

किरीडि पुं [ किरीटिन् ] अजुंन, मन्थम पाएइव (वेणी १६२) ।

किरीत वि [ कीत ] नीना हुआ, खरीदा हुआ (प्राप्र) ।

किरीय पुं [ किरीय ] १ एक म्लेच्छ देश । २ उसमें उत्पन्न म्लेच्छ जाति (राज) ।

किरोल्य न [ किरोलक ] फल-विशेष, किरोलिका वल्ली का फल (उर ६, ५) ।

किल देखो किर = किल (हे २, १८६, गडड, कुमा) ।

किलंत वि [ क्लान्त ] खिन्न, श्रान्त (पड) ।

किलज न [ किलिज ] बाँस का एक पात्र, जिसमें गैया वगैरह को खाना खिलाया जाता है (जवा) ।

किलज न [ किलिज ] वृण-विशेष (धर्मवि १३५, १३६) ।

किलकिल अक [ किलकिलाय् ] 'किल-किल' आवाज करना, हँसना, 'किलकिलइ व्व सहुरिस मणिकोकिरिणरिवेण' (कप्पु) । किलकिलाइय न [ किलकिलायित ] 'किल-किल' ध्वनि, हर्ष-ध्वनि (भावम) ।

किलणी स्त्री [ दे ] रथ्या, गली (दे २, ३१) ।

किलम्म अक [ क्लम् ] क्लान्त होना, खिन्न होना । किलम्मइ (कप्पु) । किलम्मसि (वजा ६२) । वक्क किलम्मत (पि १३६) ।

किलाचक न [ क्रीडाचक्र ] इस नाम का एक छन्द—वृत्त (पिंग) ।

किलाड पुं [ किलाट ] दूध का विकार-विशेष, मलाई (दे २, २२) ।

किलाम सक [ क्लामय् ] क्लान्त करना, खिन्न करना, ग्लानि उत्पन्न करना । किलामेज (पि १३६) । वक्क किलामेत्त (भग ५, ६) । कवक्क किलामीअमाण (मा ४६) ।

किलाम पुं [ क्लाम ] खेद, परिश्रम, ग्लानि, 'खमणिज्जो मे किलामी' (पडि, विसे २४०४) ।

किलामणया स्त्री [ क्लामना ] खिन्न करना, उत्पन्न करना (भग ३, ३) ।

किलामणा स्त्री [ क्लामना ] क्लम, क्लेश (महानि ४) ।

किलामिअ देखो किलत (अणु १३६) ।

किलामिअ वि [ क्लामित ] खिन्न किया हुआ, हैरान किया हुआ, पीड़ित, 'तरहाकिलामि-अगो' (पचम १०३, १२२, सुर १०, ४८) ।

किलिच न [ दे ] छोटी लकड़ी, लकड़ी का टुकड़ा; दंतंतरसोहरणयं किलिचमित्तिपि अवि-दिन्' (भत्त १०२, प्राप्र, दे २, ११) ।

किलिचिअ न [ दे ] ऊपर देखो (गा ८०) ।

किलित देखो किलंत (नाट—गृच्छ २५, पि १३६) ।

किलिकिच अक [ रम् ] रमण करना, क्रीडा करना । किलिकिचइ (हे ४, १६८) ।

किलिकिचिअ न [ रत्त ] रमण, क्रीडा, संभोग (कुमा) ।

किलिकिल अक [ किलिकिलाय् ] 'किल-किल' आवाज करना । वक्क किलिकिलत (उप १०३१ टी) ।

किलिकिलि न [ किलिकिलि ] इस नाम का एक विद्याधरनगर (इक) ।

किलिकिलिकिल देखो किलकिल । वक्क किलिकिलिकिलत (पचम ३३, ८) ।

किलिगिलिय न [ किलिगिलित ] 'किल-किल' आवाज करना, हर्ष-यौक्त ध्वनि-विशेष (स ३७०, ३८५) ।

किलिड्ड वि [ क्लिट्ट ] १ क्लेश-युक्त (उत्त ३२) । २ कठिन, विपम । ३ क्लेश जनक (प्राप्र; हे २, १०६, उव) ।

किलिण्ण देखो किलिन्न (स्वप्न ८५) ।

किलित्त वि [ क्लुत्त ] कल्पित, रचित (प्राप्र, पड, हे १, १४५) ।

किलित्ति स्त्री [ क्लुत्ति ] रचना, कल्पना (पि ५६) ।

किलिन्न वि [ क्लिन्न ] आर्द्र, गीला (हे १, १४५, २, १०६) ।

किलिम्म देखो किलम्म । किलिम्मइ (पि १७७) । वक्क किलिम्मत्त (से ६, ८०, ११, ५०) ।

किलिम्मिअ वि [ दे ] कथित, उक्त (दे २, ३२) ।

किलिय देखो कीव (वव २, मै ४३) ।

किलिस अक [ क्लिश् ] खेद पाना, घक जाना, दुःखी होना । वक्क किलिसत्त (पचम २१, ३८) ।

किलिस देखो किलेस, 'मिच्छतमच्छनीयाण, किलिससलिलम्मि वुहाण' (सुपा ६४) ।

किलिसिअ वि [ क्लेशित ] आयासित, क्लेश-प्राप्त (स १४६) ।

किलिस्स देखो किलिस = किलिस् । किलिस्सइ (महा, उव) । वक्क किलिस्सत्त (नाट—माल ३१) ।

किलिस्सिअ वि [ क्लिट्ट ] क्लेश प्राप्त, क्लेश-युक्त (उप पृ ११६) ।



किलीण देखो किलिण्ण (भवि) ।  
 किलीव देखो कीव (स ६०) ।  
 किल्लेस अक [ क्लिश् ] क्लेश पाना, हैरान होना । किल्लेसइ (प्राकृ २७) ।  
 किल्लेस पु [ क्लेश ] १ वेद, यकावट (श्रीप) ।  
 २ दुःख, पीडा, वाया (पउम २२, ७५, सुज २०) । ३ दुःख का कारण । ४ कर्म, शुभा-  
 शुभ-कर्म (बृह १) । ५ अर वि [°कर] क्लेश जनक (पउम २२, ७५) ।  
 किल्लेसिय वि [ क्लेशित ] दुःखी किया हुआ (सुर ४, १६७, १६९) ।  
 किल्ला देखो किड्डा (मै ६१) ।  
 किन्न पु [ कृप ] १ इस नाम का एक ऋषि, कृपाचार्य (हे १, १२८), 'भाइसयसमग्ग गगेयं विदुर दोण जयदुहं सउणी कीवं ( ? मर्त्तण किवं) आसत्ताम' (शाया १, १६—पत्र २०८) ।  
 किणं (अप) देखो कहं (कुमा) ।  
 किण्ण वि [ कृपण ] १ गरीब, रक, दीन (सूत्र १, १, ३, अचु ९७) । २ दरिद्र, निर्धन (पण्ह १, २) । ३ कल्लस, अदाता (दे २, ३१) । ४ क्लीव, कायर (सूत्र २, २) ।  
 किया स्त्री [ कृपा ] दया, मेहरबानी (हे १, १२८) । ५ वन्न वि [°पन्न] कृपा-प्राप्त, दयालु (पउम ९५, ४७) ।  
 कियाण पुन [ कृपाण ] खड्ग, तलवार (सुपा १५८, हे १, १२८, गड्ड) ।  
 कियालु वि [ कृपालु ] दयालु, दया करनेवाला (पउम ३४, ५०, ९७, २०) ।  
 किविह न [ दे ] १ खलिहान, अन्न साफ करने का स्थान । २ वि खलिहान में जो हुआ हो वह (दे २, ६०) ।  
 किविडी स्त्री [ दे ] १ किवाड, पारखं द्वार । २ घर का पिछला आंगन (दे, २, ६०) ।  
 किविण देखो किण्ण (हे १, ४६, १२८, गा १३६, सुर ३, ४४, प्रासू ५१, पण्ह १, १) ।  
 किनीडजोणि पु [ कृपीटयोनि ] अग्नि (सम्मत्त २२६) ।  
 किस सक [ क्रशय् ] हसित करना, अपचित करना । किसए (सूत्र १, २, १, १४) ।  
 किस वि [ कृश ] १ दुर्बल, निर्बल (उवर ११३) । २ पतला (हे १, १२८, ठा ४, २) ।

किसग वि [ कृशाङ्ग ] दुर्बल शरीरवाना (गा ६५७) ।  
 किसर पु [ कृगर ] १ पक्वान्न-विशेष, तिन, चावल और दूध की बनी हुई एक मद्य चीज । २ खिचड़ी, चावल और दाल का मिश्रित भोजन-विशेष (हे १, १२८) ।  
 किसर देखो कंसर 'महमहिअदमणकिमर' (हे १, १४६) ।  
 किसरा स्त्री [ कृगरा ] खिचड़ी, चावल दाल का मिश्रित भोजन-विशेष (हे १, १२८, दे १, ८८) ।  
 किसल देखो किमलय (हे १, २६६, कुमा) ।  
 किमलद्वय वि [ किमलयित ] अकुरित, नये अकुरवाला (सुर ३, ३६) ।  
 किसलय पुन [ किमलय ] १ नूतन अकुर (आ २०) । २ कोमल पत्ता (जी ६), 'सव्वोवि किसलयो म्बलु उग्गममाणो अणतप्रो भण्णो' (पण्ह १) । ३ माला स्त्री [°माला] छन्द-विशेष (अजि १६) ।  
 किमा देखो कासा (हे १, १२७) ।  
 किमाणु पु [ कृशानु ] १ अग्नि, वहि, आग । २ वृक्ष-विशेष, चित्रक वृक्ष । ३ तीन की सख्या (हे १, १२८, पट्) ।  
 किमि स्त्री [ कृपि ] खेती, चास (विसे १६१५, सुर १५, २००, प्राप्र) ।  
 किसिअ वि [ कृशित ] दुर्बलता प्राप्त, कृशता-युक्त (गा ४०, वजा १०) ।  
 किसिअ वि [ कृपित ] १ विलखित, रेखा किया हुआ । २ जोता हुआ, कृष्ट । ३ खींचा हुआ (हे १, १२८) ।  
 किसीवळ पु [ कृपीवळ ] कपक, किसान, 'पायं परस्स धन्न भक्त्तंति किसीवला पुव्वि' (आ १६) ।  
 किसोर पु [ किशोर ] बाल्यावस्था के बाद की अवस्थावाला बालक, 'सीहकिसोरोव्व गुहामो निग्गमो' (सुपा ५४१) ।  
 किसोरी स्त्री [ किशोरी ] कुमारी, प्रविवाहिता युवती (शाया १, ६) ।  
 किस्स देखो किलिस = किस् । सकृ किस्स-इत्ता (सूत्र १, ३, २) ।  
 किह् } देखो कह (आवां, कुमा, भाग ३, २, किहं } शाया १, १७) ।

कीअ देखो कीय (पट्, प्राप्र) ।  
 कीइस वि [ कीट्ठ ] बैसा, निम तट्ट का (स १४०) ।  
 कीकस पुं [ कीकश ] १ कृमि-जन्तु-विशेष । २ न हड्डी, हाट । ३ वि कठिन, कठोर (राज) ।  
 कीअअ देवा कीयग (वणी १७७) ।  
 कीड देखो किड्ड = कीड् । भवि, कीडिन्मं (पि २२६) ।  
 कीड पु [ कीट ] १ कीटा, धुद जल्लु (उव) । २ कीट विशेष, चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति (उत्त २) ।  
 कीडट्ट वि [ कीटयत्त ] कीटावाला, कीटक-युक्त (गड्ड) ।  
 कीडण न [ कीडण ] खेन, कीटा (सुर १, ११८) ।  
 कीडव पुं [ कीटव ] देखो कीड = कीट (नाट्ट नुपा ३७०) ।  
 कीडय न [ कीटय ] कीडे के जन्तु से उत्पन्न होनेवाला वन्न, वन्न-विशेष (प्रणु) ।  
 कीडा देखो किड्डा (सुर ३, ११६, उवा) ।  
 कीडाविया देखो किड्डाविया (राज) ।  
 कीडिया स्त्री [ कीटिका ] पिपीनिका, चीटी (सुर १०, १७६) ।  
 कीडी स्त्री [ कीटी ] ऊपर देखो (उप १४७ टी-दे २, ३) ।  
 कीण सक [ की ] खरीदना, मोन लेना । कीणह, कीणए (पट्) । भवि कीणिन्मं (पि ५११, ५३४) ।  
 कीणास पुं [ कीनाश ] यम, जम (पाप्र, नुपा १८३) । १ गिह [°गृह] मृत्यु, मौत (उप १३६ टी) ।  
 कीविस (शौ) देखो कीरिस (प्राकृ ८३) ।  
 कीय वि [ कीय ] १ खरीदा हुआ, मोल लिया हुआ (सम ३६, पण्ह २, १, सुपा ३४५) । २ जैन साधुओं के लिए भिक्षा का एक दोष (ठा ३, ४) । ३ न क्रय, खरीद (वस ३, सूत्र १, ६) । ४ कड, गड वि [°कृत] १ मूल्य देकर लिया हुआ (बृह १) । २ साधु के लिए मोल से कीना हुआ, जैन साधु के लिए भिक्षा दोष-युक्त वस्तु (पि ३३०) ।

कीयग पुं [कीचक] विराट देश के राजा का साना, जिनको भीम ने मारा था (उप ६४८ टी), 'नवम दूय विराडनवर, तव्य ए तुमं कि (७ की) यमं भाउववममग' (गाथा १, १६—पत्र २०६)।

कीया स्त्री [कीका] नयन तारा, 'भरकतम-भारकलितनयणकीयरासिवन्ने' (गाथा १, १ टी—पत्र ६)।

कीर पुं [दे कीर] शुक, तोता, मुग्गा (दे २, २१, उर १, १४)।

कीर पुं [कीर] १ देश विशेष, काश्मीर देश। २ वि काश्मीर देश संबन्धी। ३ वि काश्मीर देश में उत्पन्न (विमे ४६४ टी)।

कीरत } देखो कर = कृ।  
कीरमाण }

कीरल पुं [कीरल] देश-विशेष (पचम ६८, ६४)।

कीरिस देखो केरिस (गा ३७४; मा ४)।

कीरी स्त्री [कीरी] लिपि-विशेष, कीर देश की लिपि (विसे ४६४ टी)।

कील शक [कीड] क्रीडा करना, खेलना। कीलइ- (प्राप्र)। वक्र कीलंत, कीलमाण (नुर ११२१, पि २४०)। चक्र कीलेत्ता, कीलिऊग (नुर १, ११७, पि २४०)।

कील वि [दे] स्लोक, अन्प, योडा (दे २, २१)।

कील देखो लील (पाप्र)।

कील पुन [दे कील] कठ, गला (सूत्र १, ५; १, ६)।

कीलण न [कीलन] कील से बन्धन, खीले में नियन्त्रण, 'फरिणमरिणकीलणदुत्तं विन्हरियं पुहविदेवीए' (मोह २०)।

कीलण न [कीडन] क्रीडा, खेल (श्रीप)। 'वाई की [वात्री] बालक को खेल-कूद करानेवाली दाई (गाथा १, १)।

कीलणअ न [कीडनक] खिलौना (अनि २४२)।

कीलणिआ } स्त्री [दे] रय्या, गली (दे २, कीलणी } ३१)।

कीला स्त्री [दे] १ नव-वक्र, दुलहिन (दे २, ३३)।

कीला स्त्री [कीला] सुरत समय में किया जाता हृदय-ताडन विशेष (दे २, ६४)।

कीला स्त्री [कीडा] खेल, क्रीडन (मुपा ३५८, नुर १, ११७)। 'वास पु [वास] क्रीडा करने का स्थान (इक)।

कीलाल न [कीलाल] खिर, खून, रक्त (उप ८६, पाप्र)।

कीलालिअ वि [कीलालिन] खिर-शुद्ध, खूनवाला (गडड)।

कलावण न [कीडन] खेल कराना (गाथा १, २)।

कीलावणय न [कीडनक] खिलौना (निर १, १)।

कलिअ न [कीडित] क्रीडा, रमण, क्रीडन (सम १५, स २४१)।

कीलिअ वि [कीलिन] खूँटा ठोका हुआ, 'निहियव्व कीलियव्व' (महा, मुपा २५४)।

कीलिआ स्त्री [कीलिआ] १ छोटा खूँटा, खूँटी (कम्म १, ३६)। २ शरीर-सहनन-विशेष, शरीर का एक प्रकार का बाँधा, जिसे हड्डियाँ केवल खूँटी से बँधी हुई हो ऐसा शरीर-बन्धन (सम १४६, कम्म १, ३६)।

कीव पुं [कीव] १ नपुंसक (वृह ४)। २ वि कातर, अघोर (नुर २, १४, गाथा १, १)।

कीव पुं [दे कीव] पक्षि-विशेष (परह १, १—पत्र ८)।

कीस वि [कीडश] कैना, किन तरह का (भग; परण ३४)।

कीस वि [किंस्व] कौन त्वनाववाला, कैसे त्वनाव का (भग)।

कीस प्र [कस्मान्] क्यों, किस से, किस कारण से? (उक्क हे ३, ६८)।

कीस देखो किलिस्स। कीसति (उत्त १६, १५, वै ३३)। वक्र कीमत (वै ८३)।

कु अ [कु] १ अन्प, घोडा। २ निपिड, निवारित। ३ कुत्सित, निन्दित (हे २, २१७, से १, २६, अम्म १)। ४ विशेष, ज्यादा (गाथा १, १४)। 'उरिम पुं [पुरुप] खराब आदमी, दुर्जन (से १२, ३३)। 'चर वि [चर] खराब चाल-चलनवाला, सदाचार-रहित (आचा)। 'डड पु [टण्ड] पाश-विशेष, जिसका प्रान्त भाग काष्ठ का होता है

ऐसा रज्जु पास (परह १, ३)। 'डडिम वि [टण्डिम] दण्ड देकर-छोना हुआ द्रव्य

(विपा १, ३)। 'तिरिय न [तीरिय] १ जलाशय में उतरने का खराब मार्ग (प्रासू ६०)। २ दूषित दर्शन (सूत्र १, १, १)। ३ 'तिरिय वि [तीरियन] दूषित मत का अनुयायी (कुमा)। 'दडिम देखो डडिम (गाथा १, १—पत्र ३७)। 'दसण न [दर्यान] दूष मत्त, दूषित वर्म (परण २)। 'दमणि वि [दर्यानिन] १ दूष दार्शनिक। २ दूषित मत का अनुयायी (आ ६)। 'दिट्टि-न्त्री [ट्टिट्टि] १ कुत्सित दर्शन (उत्त २८)। २ दूषित मत का अनुयायी (वर्म २)। 'दिट्टिय वि [ट्टिट्टिक] दूष दर्शन का अनुयायी, मिय्यात्की (पचम ३०, ४४)। 'पव-यण न [प्रवचन] १ दूषित शास्त्र। २ वि दूषित सिद्धान्त को माननेवाला (अणु)। 'प्पावयणिय वि [प्रावचनिक] १ दूषित सिद्धान्त का अनुसरण करनेवाला (सूत्र १, २, २)। २ दूषित आगम-संबन्धी (अनुष्ठान) (अणु)। 'भक्त न [भक्त] खराब नोजन (पचम २०, १६६)। 'भार पुं [भार] १ कुत्सित मार (नूत्र २, २)। २ अत्यन्त मार, मृत-प्राय करनेवाला ताडन (गाथा १, १४)। 'रडा स्त्री [रणडा] रांड, विववा (आ १६)। 'रुव, रुव न [रुव] १ खराब रूप (उप ३६२ टी, परह १, ४)। २ माया-विशेष (भग १२, ५)। 'लिग न [लिङ्ग] १ कुत्सित भेष (दच)। २ पुं कीट वगैरह क्षुद्र जन्तु (विमे १७५४)। ३ वि कुत्सीक, दूषित वर्म का अनुयायी (आवम)। 'लिगि पुं [लिङ्गिन] १ कीट वगैरह क्षुद्र जन्तु (श्राव ७४८)। २ वि कुत्सीक, असत्य वर्म का अनुयायी (परह १, २)। 'वय न [पट] खराब शब्द,

'सो सोहइ दूसतो, कइयएरइयाइं विविहकण्वाइं। जो नजिऊए कुवय, अन्नपयं सुंदर देइ' (ववा ६)।

'वियप्प पु [विवल्प] कुत्सित विचार (मुपा ४४)। 'वुरिम देखो उरिस (पचम ६५, ४५)। 'ससग पुं [ससग] खराब सोहवत, दुर्जन-संगति (वर्म ३)। 'मत्थ पुन [शास्त्र] कुत्सित शास्त्र, भनास-प्रणीत सिद्धान्त, 'ईमरमयाइया सव्वे कुसत्या' (निव्व

११)। °समय पु [°समय] १ अनाप्त-प्रणीत शास्त्र (सम्म १)। २ वि कुतीर्थिक, कुशास्त्र का प्रणेता और अनुयायी (सम्म १)। °सह्यि वि [°शह्यिक] जिसके भीतर खराब शल्य घुस गया हो वह (पएह २, ४)। °मील न [°शील] १ खराब स्वभाव (आचा)। २ अन्नहचयं, व्यभिचार (ठा ४, ४)। ३ वि जिसका आचरण अच्छा न हो वह, दुराचारी (शोध ७६३)। ४ अन्नहचारी, व्यभिचारी (ठा ५, ३)। °स्सुमिण पुन [°स्वप्न] खराब स्वप्न (आ ६)। °हण वि [°धन] अल्प वनवाला, दरिद्र (पएह २, १—पत्र १००)।

कु स्त्री [कु] १ श्रुयिबी, भूमि, 'कुममयवि-सासण' (सम्म १ टी—पत्र ११८, से १, २६)। °त्तिअ न [°त्रिक] १ तीनों जगत्, न्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक। २ तीन जगत् में स्थित पदार्थ (श्रीप)। °त्तिअ वि [°त्रिज] तीनों जगत् में उत्पन्न वस्तु (आवम)। °त्तिआवण पुन [°त्रिकावण] तीनों जगत् के पदार्थ जहाँ मिल सके ऐसी दूकान (भग, राया १, १—पत्र ५३)। °वल्य न [°वल्य] पृथ्वी-मण्डल (आ २७)।

कुअरी देखो कुओरी (पि २५१)।

कुअलअ देखो कुवल्य (प्राप्र)।

कुओरी देखो कुमारी (गा २६८)।

कुडअ वि [कुचित] सकुचा हुआ (पव ६२)।

कुइमाण वि [दे] म्लान, शुष्क (दे २, ४०)।

कुइय वि [कुचित] अस्वस्थान्दित, क्षरित (ठा ६)।

कुडय वि [कुपित] क्रुद्ध, कोप-युक्त (भवि)।

कुडयण पुं [कुधिकर्ण] इस नाम का एक गृहपति, एक गृहस्थ (विसे ६३२)।

कुडअ पुंन [कुतुप] स्नेहपात्र, घी तैल वगैरह भरने का चमड़े का पात्र-विशेष; 'तुप्पाई को (? कु) जमाइ (पाप्र) देखो कुतुप।

कुडआ स्त्री [दे] तुम्बी-पात्र, तुम्बा (दे २, १२)।

कुडव देखो कुडअ (पिंड ५५७)।

कुऊल न [दे] १ नीवी, नारा, इजारबन्द।

२ पहने हुए कपड़े का प्रात भाग, अर्धचल (दे २, ३८)।

कुऊहल न [कुतुहल] १ अपूर्व वस्तु देखने की लालसा—उत्सुकता। २ कौतुक, परिहास (हे १, ११७, कुमा)।

कुओ प्र [कुत] कहां मे ? (पट्)। °ह

अ [°चित्] कहीं से, किसी से (म १८५)।

°वि अ [°अपि] कहीं मे भी (काल)।

कुंआरी स्त्री [कुमारी] वनस्पति-विशेष, कुवारपाठा, बीकुवार, धीगुवार (आ २०, जी १०)।

कुकण न [दे] १ बोकनद, रक्त-कमल (पएण

१—पत्र ४०)। २ पु सुद्र जन्तु विशेष,

चतुरिन्द्रिय कीड़े की एक जाति (उत्त ३६)।

कुऊण पुं [कोङ्कण] देश-विशेष (अणु, मार्घ ३४)।

कुऊण देखो कुकण (मिरि २८६)।

कुऊम न [कुडकुम] केसर, सुगन्धी द्रव्य-विशेष (कुमा, आ १८)।

कुगा पुं [कुङ्ग] देश-विशेष (भवि)।

कुच सक [कुञ्च] १ जाना, चलना। २ अक्र, सकुचित होता। ३ टेढ़ा चलना (कुमा; गटव)।

कुच पुं [कुञ्च] १ पत्ति विशेष (पएह १, १, उप पृ २०८, उर १, १८)। २ इस नाम का एक अमुर (पाप्र)। ३ इस नाम का एक अनायं देश। ४ वि उसके निवासी लोग (पव २७४)। °रवा स्त्री [°रवा]

दण्डकारण्य की इस नाम की एक नदी (पठम ४२, १५)। °वीरग न [°वीरक]

एक प्रकार का जहाज (निचू १६)। °रि

पु [°रि] कात्तिकेय, स्कन्द (पाप्र)। देखो कौंच।

कुंचल न [दे] मुकुल, बली, वीर (दे २, ३६, पाप्र)।

कुंचि वि [कुञ्चिन्] १ कुटिल, वक्र। २

मायावी, कपटी (वव १)।

कुंचिगा देखो कौंचिगा।

कुंचिय वि [कुञ्चित] १ सकुचित (सुपा

५८)। २ मुण्डल के आकारवाला, गोलाकृति

(श्रीप; जं २)। ३ कुटिल, वक्र (वव १)।

कुंचिय पुं [कुञ्चिक] इस नाम का एक जैन उपासक (भत १३३)।

कुंचिया देखो कौंचिगा। रुई से भरा हुआ पहनने का एक प्रकार का कपड़ा (जीत)।

कुंचिया स्त्री [कुञ्चिका] वृञ्जी, तानी (पिंड ३५६)।

कुजर पुं [कुञ्जर] हन्वी, हाथी (हे १, ६६

पाप)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष,

हस्तिनापुर (पठम ६५, ३८)। °मेणा स्त्री

[°सेना] ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एक रानी

(उत्त २६)। °वन्त न [°वर्त] नगर-

विशेष (नुर ३, ८८)।

कुट वि [कुण्ट] १ कुञ्ज, वामन (आचा)।

२ हाय-रहित, हस्त-हीन (पव ११०, निचू

११, आचा)।

कुटलविटल न [दे] १ मन्त्र-तंत्रादि का प्रयोग,

पाखण्ड विशेष (आवम)। २ वि, मन्त्र-

तंत्रादि से आजीविका चलानेवाला (आक)।

कुटार वि [दे] म्लान, सूखा, नलिन (दे २,

४०)।

कुटि स्त्री [दे] १ गठरी, गाँठ (दे २, ३४)।

२ मन्त्र-विशेष, एक प्रकार का श्रौजार

'मुमलुक्कनहलदंतानकुटिकुदालपमृहत्तयाण'

(सुपा ५२६)।

कुठ वि [कुण्ठ] १ मन्द, भ्रालसी (आ १६)।

२ मूर्ख, बुद्धि-रहित (आचा)।

कुठी स्त्री [दे] सँढसी, चीमटा (वज्जा ११४)।

कुड न [कुण्ड] १ कुंडा, पात्र-विशेष (पट्)।

२ जलाशय-विशेष (एदि)। ३ इस नाम

का एक सरोवर (ती ३४)। ४ आना,

आदेश: 'विसमणकुंडघारिणोतिरियजमगा देवा'

(कप्प)। °कोलिय पु [°कोलिक] एक जैन

उपासक (उवा)। °गाम पु [°ग्राम]

मगध देश का एक गाँव (कप्प, पठम २,

२१)। °वारि वि [°धारिन्] आजाकार्त्ति

(कप्प)। °पुर न [°पुर] ग्राम-विशेष (कप्प)।

कुंड न [दे] मूख परने का जीरां काण्ड,

जो बाँस का बना हुआ होता है (दे २, ३३,

४, ४५)।

कुंडग पुंन [कुण्डक] १ अन्न का छिलका

(उत्त १, ५, आचा २, १, ८, ६)। २

चावल से मिश्रित भूसा (उत्त १, ५)।

कुडभी स्त्री [टे. कुडभी] छोटी पताका (आवम)।

कुडमोअ पुन [कुण्डमोद] हाथी के पैर की आकृतिवाला मिट्टी का एक तरह का पात्र (दस ६, ५१)।

कुंडल पुन [कुण्डल] १ एक देव-विमान (देवेन्द्र १४५)। २ तप-विशेष, 'पुरिमट्ट' या निर्विकृतिक तप (संघोष ५७)।

कुडल पुन [कुण्डल] १ कान का आभूषण (भग, श्रौप)। २ पुं. विदर्भ देश के एक राजा का नाम (पउम ३०, ७७)। ३ द्वीप-विशेष। ४ समुद्र-विशेष। ५ देव-विशेष (जीव ३)। ६ पर्वत-विशेष (ठा १०)। ७ गोल आकार (मुपा ६२)। °भद पु [°भद्र] कुण्डल द्वीप का एक अधिष्ठायक देव (जीव ३)। °मडिअ वि [°मण्डित] १ कुण्डल से विमूर्षित। २ विदर्भ देश का इस नाम का एक राजा (पउम ३०, ७४)। °महाभद पु [°महाभद्र] देव विशेष (जीव ३)। °महावर पु [°महावर] कुण्डलवर समुद्र का अधिष्ठाता देव (सुज्ज १६)। °वर पु [°वर] १ द्वीप विशेष। २ समुद्र-विशेष। ३ देव विशेष (जीव ३)। ४ पर्वत-विशेष (ठा ३, ४)। °वरभद पु [°वरभद्र] कुण्डलवर द्वीप का एक अधिष्ठायक देव (जीव ३)। °वरमहाभद पु [°वरमहाभद्र] कुण्डलवर द्वीप का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३)। °वरोभास पु [°वराव-भास] १ द्वीप-विशेष। २ समुद्र-विशेष (जीव ३)। °वरोभासभद पु [°वराव-भासभद्र] कुण्डलवरभाव द्वीप का अधिष्ठाता देव (जीव ३)। °वरोभासमहाभद पु [°वराव-भासमहाभद्र] देवो पूर्वोक्त अर्थ (जीव ३)। °वरोभासमहावर पु [°वराव-भासमहावर] कुण्डलवरभावस समुद्र का अधिष्ठायक देव-विशेष (जीव ३)। °वरोभासवर पु [°वराव-भासवर] समुद्र-विशेष का अधिपति देव विशेष (जीव ३)। कुडला स्त्री [कुण्डला] विदेहवर्ष स्थित नगरी विशेष (ठा २, ३)। कुडलि वि [कुण्डलिन्] कुण्डलवाला (भास ३३)।

कुंडलिअ वि [कुण्डलित] वत्तुल, गोल आकारवाला (मुपा ६२, कप्पू)।

कुडलिआ वि [कुण्डालका] छन्द विशेष (पिंग)।

कुडलोद पु [कुण्डलोद] इस नाम का एक समुद्र (सुज्ज १६)।

कुडाग पु [कुण्डाग] सनिवेश-विशेष, ग्राम-विशेष (आवम)।

कुडि देखो कुडी (महा)।

कुडिअ पु [ट] ग्राम का अधिपति, गाँव का मुखिया (दे २, ३७)।

कुडिअपेमण न [टे] ब्राह्मण विधि, ब्राह्मण की नौकरी, ब्राह्मण की सेवा (दे २, ४३)।

कुडिगा } स्त्री [कुण्डिका] नीचे देखो  
कुडिया } (रभा, अनु ५, भग, राया २, ५)।

कुडिग न [कुण्डिन] विदर्भ देश का एक नगर (कुप्र ४८)।

कुडी स्त्री [कुण्डी] १ कुण्डा, पात्र-विशेष, 'तेनिमहोभूमोए ठविया कुडी य तेसपडि-पुन्ना' (मुपा २६६)। २ कमण्डल, संन्यामी का जल पात्र (महा)।

कुठ देखो कुठ (मुपा ४२२)।

कुटय न [टे] १ कुली, चूल्हा। २ छोटा वस्त्र (दे २, ६३)।

कुन पु [दे] शुक, तोता, मुग्गा (दे २, २१)।

कुन पुं [कुन्त] १ हथियार-विशेष, भाला (पएह १, १, श्रौप)। २ राम के एक सुभट का नाम (पउम ५६, ३८)।

कुनल पुं [कुन्तल] १ केश, बाल (सुर १, १, मुपा ६१, २००)। २ देश विशेष (मुपा ६१, उव ४६५)। °हार पु [°हार] घम्मिल्ल, सयत केश, बाँधे हुए बाल (पात्र)। कुनल पुं [टे] सातवाहन, नृप-विशेष (दे २, २६)।

कुनला स्त्री [कुन्तला] इस नाम की एक रानी (दस)।

कुतला स्त्री [टे] करोटिका, परोसने का एक उपकरण (दे २, ३८)।

कुतली स्त्री [कुन्तली] कुन्तल देश की रहने-वाली स्त्री (कप्पू)।

कुताकुनि न [कुन्ताकुन्ति] बट्टे की लड़ाई (मिरि १०३२)।

कुनी स्त्री [टे] मजरी, वीर (दे २, ३४)।

कुनी स्त्री [कुन्ती] पाण्डवों की माता का नाम (उप ६४८)। °विहार पुं [°विहार] नासिक-नगर का एक जैन मन्दिर, जिसका जोरोंद्वारा कुन्तीजी ने किया था (ती २८)।

कुनीपोट्टलय वि [टे] चतुष्कोण, चार कोनवाला, चौकोर (दे २, ४३)।

कुंथु पु [कुन्थु] १ एक जिन-देव, इस धव-सर्पिणी काल में उत्पन्न मत्तरहवाँ तीर्थंकर और छठवाँ चक्रवर्ती राजा (नम ४३, पडि)। २ हरिवंश का एक राजा (पउम २२, ६८)। ३ चमरेन्द्र की हन्ति-सेना का अधिपति देव-विशेष (ठा ५, १—पत्र ३०२)। ४ एक क्षुद्र जन्तु, त्रीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, जी १७)।

कुद पुं [कुन्द] १ पुष्प-वृक्ष विशेष (जं २)। २ न पुष्प-विशेष, कुन्द का फूल (सुर २, ७६, राया १, १)। ३ विद्या-घरो का एक नगर (इक)। ४ पुन छन्द-विशेष (पिंग)।

कुदय वि [दे] कृश, दुबल (दे २, ३७)।

कुदा स्त्री [कुन्दा] एक इन्द्राणी, मानिभद्र इंद्र की पटरानी (इक)।

कुदीर न [दे] विम्बी-फल, कुन्दरन का फल (दे २, ३६)।

कुदुक्क पु [कुन्दुक्क] वनम्पति-विशेष (पएण १—पत्र ४१)।

कुदुरुक्क पुं [कुन्दुरुक्क] सुगन्धि पदार्थ विशेष (राया १, १—पत्र ४१, सम १३७)।

कुदुल्लुअ पु [दे] पक्षि-विशेष, उल्लूक, उल्लू (पात्र)।

कुधर पुं [दे] छोटी मछली (दे २, ३२)।

कुपय पुंन [कूपक] तैल वगैरह रखने का पात्र-विशेष (रयण ३१)।

कुपल पुन [कुट्मल, कुड्मल] १ इस नाम का एक नरक। २ मुकुल, कली, कलिका (दे १, २६ कुभा, पड्)।

कुवर [ट] देखो कुंधर (पात्र)।

कुभ पु [कुम्भ] १-३ माठ, अस्ती और एक सी आढ़क की नाप (अणु १५१, तदु २६)। ४ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि (विचार १०६)। ५ एक बाजा (राय ४६)।

कुंभ पुं [कुम्भ] १ म्वनाम प्रसिद्ध एक राजा, भगवान् मल्लिनाथ का पिता (सम १५१, पृष्ठ २०, ४५)। २ म्वनाम-म्याव जैन महर्षि, अठारहवें तीर्थंकर के प्रथम शिष्य (सम १५२)। ३ कुम्भकरा का एक पुत्र (मे १२, ६५)। ४ एक विद्यावर सुभट का नाम (पृष्ठ १०, १३)। ५ परमावात्मिक देवों की एक जाति (सम २६)। ६ बन्ग, घडा (महा, कुमा)। ७ हाथों का गरड-स्थल (कुमा)। ८ धान्य मापने का एक परिमाण (अणु)। ९ तरने का उपकरण (तिव्व ?)। १० ललाट, भाल म्यल (पत्र २)। ११ अणु पुं [कर्ण] रात्रण के छोटे भाई का नाम (१५, ११)। आर पुं [कार] कुम्हार, घडा आदि मिट्टी का बरतन बनाने-वाला (हे १, ८)। उर न [पुर] नगर-विशेष (दस)। गार देवो आर (महा)। गग न [ग] मगव-देग-प्रसिद्ध एक परिमाण (राया १, ८—पत्र १२५)। सेण पुं [सेन] उत्तिपिणी काल के प्रथम तीर्थंकर के प्रथम शिष्य का नाम (तिल्य)।

कुंभड न [कुम्भाण्ड] फल विशेष, कोहंडा, कुम्हडा (कप्प)।

कुंभार पुं [कुम्भकार] कुम्हार, घडा आदि मिट्टी का बरतन बनानेवाला (हे १, ८)। वाय पुं [पाक] कुम्हार का बरतन पकाने का म्यान (ठा ८)।

कुभि पुं [कुम्भिन] १ हत्ती, हाथी (मण)। २ नपुंसक विशेष, एक प्रकार का पड पुरुष (पुष्प १२७)।

कुभिक देवो कुभिय (राय ३७)।

कुभिणी स्त्री [दे] जल का तर्त (दे २, ३८)।

कुभिय वि [कुम्भिक] कुम्भ-परिमाणवाला (ठा ४, २)।

कुभिल पुं [दे कुम्भिल] १ चोर, स्तेन (दे २, ६२, विक ५६)। २ पिशुन, दुर्जन (दे २, ६२)।

कुभिल वि [दे] खोदने योग्य (दे २, ३६)।

कुंभी स्त्री [कुम्भी] १ पात्र-विशेष, घडे के आकारवाला छोटा बोट (सम १२५)। २ कुम, घडा (जं ८)। पाग पुं [पाक] १

कुभी मे पकना (परह २, ५)। २ नरक की एक प्रकार की यातना (सूत्र १, १, १)।

कुभी स्त्री [कुम्भाण्डी] कोहंडा का गाछ, 'चलिग्रो कुनीफन दतुरामु' (गडड)।

कुभी स्त्री [दे] केश्य रचना, केश्य-नयम (दे २, ३४)।

कुभील पुं [कुम्भील] जलचर प्राणि विशेष, नक्र, मगर (चार ६४)।

कुंमुन्भव पुं [कुम्भोद्भव] ऋषि-विशेष, अगम्य ऋषि (नप्पु)।

कुम्भि वि [कुम्भिन] खराप कर्म करने-वाला (सूत्र १, ७, १८)।

कुकुला स्त्री [दे] नवोढा, दुलहित (दे २, ३३)।

कुकुस [दे] देखो कुक्कुस (दस ५, १३४)।

कुकुहाडय न [कुकुहायित] चलते समय का शब्द विशेष (तंदु)।

कुकुल पुं [कुकुल] करीपाग्नि, बंडे की आग (परह १, १)।

कुक्क देखो कोक्क। कुक्कइ (पि १६७, ४८८)।

कुक्क पुं [दे] कुत्ता, कुक्कुर, 'कुक्केहि कुक्काहि अ कुक्कति (मृच्छ ३६)।

कुक्कयय न [दे] आभरण विशेष, 'अद्रु अर्जाणि अलकार कुक्कयय मे पयच्छाहि' (सूत्र १, ४, २, ७)। देखो कुक्कुडय।

कुक्की स्त्री [दे] कुत्ती, कुक्कुरी (मृच्छ ३६)।

कुक्कुअ वि [कुक्कुच] भांड की तरह शरीर के अग्रवर्ती की कुचेष्टा करनेवाला (धर्म २, पव ६)।

कुक्कुअ न [कौकुच्य] कुचेष्टा, कामोत्पादक अण-विकार (पृष्ठ ११, ६७, आचा)।

कुक्कुअ वि [कुक्कुज] आरन्दन करनेवाला (उत्त २१)।

कुक्कुआ स्त्री [कुक्कुचा] अरवस्यन्दन, क्षरण, रम-रम कर चूना, रसना (वृह ६)।

कुक्कुइअ वि [कौकुचिक] भंड की तरह कुचेष्टा करनेवाला, काम-चेष्टा करनेवाला (भा, श्रौप)।

कुक्कुइअ न [कौकुच्य] नाम-कुचेष्टा, 'भडाईए व नपयाइयाण सवियारकरणमिह मणिय। कुक्कुइय' (सुपा ५-६, पडि)।

कुक्कुड पुं [कुक्कुट] चतुर्गिन्द्रिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १४८)।

कुक्कुड पुं [कुक्कुट] १ कुक्कुट, मुर्गा (गा ५८२, उवा)। २ वनस्पति-विशेष (भग १७)। ३ विद्या द्वारा किया जाता हस्त-प्रयोग-विशेष (वव १)। मसय न [माम-क] १ मुर्गा का माम। २ वीजपूरक वनस्पति का गुदा (भग १७)।

कुक्कुड वि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे २, ३७)।

कुक्कुडय न [कुक्कुटक] देखो कुक्कयय (सूत्र १, ८, २, ७ टी)।

कुक्कुडिया स्त्री [कुक्कुटिका टी] कुक्कुडी } कुक्कुटी, मुर्गा (राया १, ३; विपा १, ३)।

कुक्कुडी स्त्री [कुक्कुटी] माया, कपट (पिठ २६७)।

कुक्कुडेसर न [कुक्कुटेसर] तीर्थ-विशेष (ती १६)।

कुक्कुर पुं [कुक्कुर] कुत्ता, श्वान (पउम ६४, ८०, मुपा २७७)।

कुक्कुरड पुं [दे] निकर, समूह (दे २, १३)।

कुक्कुस पुं [दे] धान्य आदि का छिनका, भूसा (दे २, ३६, दस ५, १, ३४)।

कुक्कुइ पुं [कुक्कुभ] पालि-विशेष (गडड)।

कुक्कुहाइअ न [दे] चलते समय का अश्रव का शब्द विशेष (तदु ५३)।

कुक्किय [दे कुक्कि] देवो कुक्कि (दे २, ३८, श्रौप, म्वप्प ६१, कर ३३)।

कुक्कियभरि देखो कुक्किभरि (धर्मवि १८६)।

कुक्कियअ देखो कुक्कियअ (सक्ति ६)।

कुग्गाह पुं [कुग्गाह] १ कदाग्रह, हठ (उप ८३३ टी)। २ जल-जन्तु विशेष, 'कुग्गाह-गाहाइयजतुसवुलो' (सुपा ६२६)।

कुच पुं [कुच] स्तन, थन (कुमा)।

कुचोज न [कुचोच] वृत्तक (धर्मस १६७५)।

कुच पुं [कुच] कँपी, बाल संचारने का उपकरण (उत्त २२, ३०)।

कुच न [कुच] १ दाही-भूँछ (पात्र: अमि २१२)। २ वृण-विशेष (परह २, ३) देखो कुचग।

कुचधरा स्त्री [कुचधरा] दाही-भूँछ, धारण करनेवाली (श्रौव ८३ भा)।

कुचग वि [कौर्चक] शर-नामक गाछ का वना हुआ (आचा २, २, ३, १४)।

कुचग } देखो कुच (आचा २, २, ३;  
कुचय } काल)। ३ कूँची, वृण-निर्मित तुलिका, जिससे दीवाल में चूना लगाया जाता है (उप पृ ३४३; कुमा)।

कुचिय वि [कूचिक] दाढ़ी-मूँछवाला (वृह १)।

कुच्छ सक [कुस्] निन्दा करना, विकारना। क. कुच्छ कुच्छणिज (आ २७; परह १, ३)।

कुच्छ पुं [कुस] १ अपि-विशेष। २ गोत्र-विशेष; 'वेरस एं अजसिवभूस्स कुच्छसुत्तस्स' (कप्प)।

कुच्छ देखो कुच्छ = कुस्।

कुच्छग पुं [कुत्सक] वनस्पति-विशेष (सूत्र २, २)।

कुच्छणिज देखो कुच्छ = कुस्; 'अन्नेस्सि कुच्छणिजं साणाणं भक्खणिजं हि' (आ २७)।

कुच्छा स्त्री [कुत्सा] निन्दा, घृणा, जुगुप्सा (श्रौव ४४४; उप ३२० टी)।

कुच्छि पुंस्त्री [कुक्षि] १ उदर, पेट (हे १, ३५; उवा; महा)। २ अड़तालीस अंगुल का मान (जं २)। ३ किमि पुं [°कृमि] उदर में उत्पन्न होनेवाला कीड़ा, द्विन्द्रिय जन्तु-विशेष (परह १)। ४ धार पुं [°धार] १ जहाज का काम करनेवाला नौकर; 'कुच्छिधारकन-

वारंगभजसंजतायावावाणियगा' (आया १, ८—पत्र १३३)। २ एक प्रकार का जहाज का व्यापारी (आया १, १६)। ३ पूर पुं [°पूर] उदर-पूति (वव ४)। ४ वेयणा स्त्री [°वेदना] उदर का रोग-विशेष (जीव ३)। ५ शूल पुंन [°शूल] रोग-विशेष (आया १, १३; विपा १, १)।

कुच्छिभरि वि [कुक्षिभरि] अकेलपेट, पेट, स्वार्थ; 'हा तियचरित्तकुस्सि (? चिंछं) भरिण!' (रंभा)।

कुच्छिमई स्त्री [दे. कुक्षिमती] गर्भिणी, आपन्न-सत्त्वा (दे २, ४१; पड्)।

कुच्छिमदिका (मा) देखो कुच्छिमई (प्राक् १०२)।

कुच्छिय वि [कुरिसत] खराब, निन्दित, गहित (पंचा ७; भवि)।

कुच्छिन्न न [दे] १ वृत्ति का विवर, बाड़ का छिद्र (दे २, २४)। २ छिद्र, विवर (पात्र)।

कुच्छेअय पुं [कौत्तैयक] तलवार, खड्ग (दे १, १६१ पड्)।

कुज पुं [कुज] वृक्ष, पेड़ (जं २)।

कुजय पुं [कुजय] जूआरी, जूआखोर (सूत्र १, २, २)।

कुज्ज वि [कुज्ज] १ कुज्ज, कुवड़ा, वामन (सुपा २; कप्प)। २ पुंन. पुष्प-विशेष (पड्)।

कुज्जय पुं [कुज्जक] १ वृक्ष-विशेष, शतपत्रिका (पउम ४२, ८; कुमा)। २ न. उस वृक्ष का पुष्प; 'वंवेउं कुज्जयपसूणं' (हे १, १८१)।

कुज्ज सक [कुध] क्रोध करना, गुस्सा करना। कुज्जइ (हे ४, २१७; पड्)।

कुट्ट सक [कुट्ट] १ कूटना, पीटना, ताड़न करना। २ काटना, छेदना। ३ गरम करना। ४ उपालम्भ देना। भवि. कुट्टइस्सं (पि ५२८)।

वक. कुट्टित (सुर ११, १)। कवक. कुट्टि-जंत, कुट्टिजमाण (सुपा ३४०; प्रासू ६६; राय)। संक. कुट्टिय (भग १४, ८)।

कुट्ट पुं [कुट्ट] घड़ा, कुम्भ (सूत्र २, ७)।

कुट्ट पुंन [दे] १ कोट, किला; 'दिज्जंति कवाडाइ कुट्टद्वरि भवा ठविज्जंति' (सुवा ५०३)। २ नगर, शहर (सुर १५, ८१)। ३ वाल पुं [°पाल] कोतवाल, नगर-रक्षक (सुर १५, ८१)।

कुट्टण न [कुट्टण] १ छेदन, चूर्णन, भेदन (श्रौप)। २ कूटना, ताड़ना (हे ४, ४३८)।

कुट्टणा स्त्री [कुट्टणा] शारीरिक पीड़ा (सूत्र १, १२)।

कुट्टणी स्त्री [कुट्टणी] १ मूसल, एक प्रकार की मोटी लकड़ी, जिससे चावल आदि अन्न कूटे जाते हैं (वृह १)। २ दूती, कुटनी, कुट्टिनी (रंभा)।

कुट्टरी स्त्री [दे] चंडी, पार्वती (दे २, ३५)।

कुट्टा स्त्री [दे] गौरी, पार्वती (दे २, ३५)।

कुट्टाय पुं [दे] चर्मकार, मोची (दे २, ३७)।

कुट्टित देखो कुट्ट = कुट्ट।

कुट्टितिया देखो कोट्टितिया (राज)।

कुट्टिव [दे] देखो कोट्टिव (पात्र)।

कुट्टिणी स्त्री [कुट्टिणी] कूटनी, दूती (कप्प; रंभा)।

कुट्टिम देखो कोट्टिम = कुट्टिम (भग ८, ६; राय; जीव ३)।

कुट्टिय वि [कुट्टित] १ कूटा हुआ, ताड़ित (सुपा १५; उत्त १६)। २ छिन्न, छेदित (वृह १)।

कुट्ट पुंन [कुट्ट] १ पंसारी के यहाँ बेची जाती एक वस्तु, कूठ (विसे २६३; परह २, ५)। २ रोग-विशेष, कोढ़ (वव ६)।

कुट्ट पुं [कोट्ट] १ उदर, पेट; 'जहा विस्सं कुट्टगयं मंतमूलविसारया। वेजा हणंति मंतेहि' (पडि)। २ कोठा, कुशूल, धान्य भरने का बड़ा भाजन (परह २, १)। ३ बुद्धि वि [°बुद्धि] एक बार जानने पर नहीं भूलने-वाला (परह २, १)। देखो कोट्ट, कोट्टग।

कुट्ट वि [क्रुट्ट] १ शपित, अभिशप्त। २ न-शाप, अभिशाप-शब्द; 'उट्टं कुट्टं केहि पेच्छंता आगया इत्थं' (सुपा २५०)।

कुट्टग पुंन [कोट्टक] शून्य घर (दस ५, १ २०; ८२)।

कुट्टा स्त्री [कुट्टा] इमली, चिचा (वृह १)।

कुट्टि वि [कुट्टिन] कुठ रोगवाला (सुपा २४३; ५७६)।

कुट्ट पुं [कुट्ट] १ घड़ा, कलश (दे २, ३५; गा २२६; विसे १४५६)। २ पर्वत। ३ हाथी वगैरह का कवचन-स्थान (आया १, १—पत्र ६३)। ४ वृक्ष, पेड़; 'तडुवियसिहंडमंडियकु-डगो' (सुगा ५६२)। कंठ पुं [°कण्ठ] पात्र-विशेष, घड़ा के जैसा पात्र (दे २, २०)। ५ दौहिणी स्त्री [°दोहिणी] घड़ा भर दूध देनेवाली (गा ५३७)।

कुडंग पुंन [कुट्टङ्ग] १ कुम्भ, निकुम्भ, लता वगैरह से ढका हुआ स्थान (गा ६८०; हेका १०५)। २ वन, जंगल (उप २२० टी)। ३ वाँस की जाली, वाँस की बनी हुई छत (वृह १)। ४ गह्वर, कोटर (राज)। ५ वंश-गहन (आया १, ८; कुमा)।

कुडंग पुंन [दे. कुट्टङ्ग] लता-गृह. लता से ढका हुआ घर (दे २, ३७; महा; पात्र; पड्)।

कुडंगा स्त्री [कुट्टङ्गा] लता-विशेष (पउम ५३, ७६)।

कुडंगी स्त्री [दे. कुटङ्गी] बंस की जाती, एकपहारेण निवडिया बंसकुडंगी (महा. सुर १२, २००; उप पृ २८१) ।

कुडंग देखो कुडंग (महा. गा ६०६) ।

कुडंग देखो कुड (भावमः सूत्र १, १२) ।

कुडभी स्त्री [कुटभी] छोटा पताका (सम ६०) ।

कुडय न [दे.] लता-गृह, लता से आच्छादित घर, कुटीर, भोंपड़ी (दे २, ३७) ।

कुडय पुंन [कुटज] वृक्ष-विशेष, कुरैया (शाया १. २; परण १७; स १६४); 'कुडयं दलइ' (कुमा) ।

कुडय पुं [कुडय] अनाज या अन्न नामने का एक माप (शाया १, ७; उप पृ ३७०) ।

कुडाल देखो कुडाल (उवा) ।

कुडिअ वि [दे.] कुब्ज, वामन, नाटा (पाग्र) ।

कुडिआ स्त्री [दे.] वाड़ का विवर (दे २, २४) ।

कुडिअ न [दे.] १ वाड़ का छिद्र । २ कुटी, भोंपड़ी । ३ वि. वृत्तित, चित्र (दे २, ६४) ।

कुडिल वि [कुटिल] वक्र, टेढ़ा (सुर १, २०; २, ८६) ।

कुडिलविडल न [दे. कुटिलविटल] हस्ति-शिक्षा (राज) ।

कुडिल न [दे.] १ छिद्र, विवर (पाग्र) । २ वि. कुब्ज, कुबड़ा (पाग्र) ।

कुडिलय वि [दे. कुटिलय] कुटिल, टेढ़ा, वक्र (दे २, ४०; नवि) ।

कुडिलय देखो कुटिलयय (राज) ।

कुडी स्त्री [कुटी] छोटा गृह, भोंपड़ी, कुटीर (मुपा १२०; बजा ६४) ।

कुडीर न [कुटीर] भोंपड़ी, कुटी (हे ४, ३६४; पदम ३३, ८५) ।

कुडीर न [दे.] वाड़ का छिद्र (दे २, २४) ।

कुडुंग पुं [दे.] लतागृह, लताओं से ढका हुआ घर (पड; गा १७५; २३२ अ) ।

कुडुंग न [कुटुम्ब] परिजन, परिवार, स्वजन-वर्ग (उवा; महा; प्राप् १६७) ।

कुडुंगय पुं [कुटुम्बक] १ वनस्पति-विशेष, बनियाँ (परण १—पत्र ४०) । २ कन्द-विशेष: 'पल्लुलसणकदे य कन्दो य कुडुंगव' (उत्त ३६, ६८ को) ।

कुडुंगि वि [कुटुम्बिन, 'क] १ कुटुम्ब-कुडुंगिअ युक्त, गृहस्थ । २ कुनवेवाला, कर्षक (गउड) । ३ सम्बन्धी; 'सोनागुणसमुद-एणं आणणकुडुंगिअणं' (कण) ।

कुडुंगीअ न [दे.] सुरत, संभोग, मैथुन (पड) ।

कुडुंगभा पुं [दे.] जल-मरहक, पानी का मेढक (निचू ?) ।

कुडक पुं [दे.] लता-गृह (पड) ।

कुडुचिअ न [दे.] सुरत, संभोग, मैथुन (दे २, ४१) ।

कुडुडी (अन) स्त्री [कुटी] कुटिया, भोंपड़ी (कुमा) ।

कुडु पुंन [कुड्य] १ नित्ति, भीत (पदम ६८, ६; हे २, ७८);

'अज्जं नगोत्ति अज्जं नगोत्ति

अज्जं नगोत्ति गण्णिरिए ।

पदमविय दिग्रहदं कुडुं लेहाहि

चित्तलियो (गा २०८) ।

कुडु न [दे.] आरचय, कौतुक, कुतूहल (दे २, ३३; पाग्र; पड; हे २, १७४) ।

कुडुगिलोई [दे.] गृह-गोवा, छिन्नकली (दे २, १६) ।

कुडुलेवणी स्त्री [दे. कुडयलेपनी] मुवा, चूना, खड़ी, खटिका (दे २, ४२) ।

कुडुवाल न [दे.] हल के ऊपर का विस्तृत अंश (उवा) ।

कुड पुंन [दे.] १ चुराई हुई वस्तु की चोज में जाना (दे २, ६२; मुपा ५०३) । २ छीनी हुई चोज को छुड़ानेवाला, वापस लेनेवाला (दे २, ६२) ।

कुडार पुं [कुटार] कुल्हाड़ा, फरसा (हे १, १६६; पड) ।

कुडायय न [दे.] अनुगमन, पीछे जाना (विने १४३६ टी) ।

कुडिय वि [दे.] कूड, मूख, बेसमक; 'कूयंति नेउरई पुरां पुरां कुडियपुरिसोव' (सुर ३, १४२) ।

कुडिय वि [दे.] जिसके माल की चोरी हो गई हो वह (सुत्र २, २१) ।

कुण सक [कु] करना, बनाना । कुणद, कुणउ, कुण (भग; महा; मुपा ३२०) ।

वक्र. कुगंत, कुगमाण (गा १९५; मुपा ३६; ११३; आचा) ।

कुगक पुं [कुगक] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५) ।

कुडय न [कुगप] १ मुरवा, मृत-शरीर (पाग्र; गउड) । २ वि. कुगंवी (हे १, २३१) ।

कुगाल पुं. व. [कुगाल] १ देश-विशेष (शाया १, ८; उप ६८ टी) । २ प्रसिद्ध महाराज अशोक का एक पुत्र (विने ८६?) ।

'नयर न [नगर] एक शहर, उज्जैन; 'आसी कुगालनयदे' (संथा) ।

कुगाला स्त्री [कुगाला] इस नाम की एक नगरी (मुपा १०३) ।

कुणि पुं [कुणि] १ हस्त-विकल, हूँट, कुणिअ हाथ-कटा मनुष्य (पदम २, ७७) ।

२ जन-से ही जिसका एक हाथ छोटा हो वह । ३ जिसका एक पांव छोटा हो वह, खज (परह २, ५—पत्र १५०; आचा) ।

कुणिआ स्त्री [दे.] वृत्ति-विवर, वाड़ का छिद्र (दे २, २४) ।

कुणिम पुंन [दे. कुगप] १ शव, मृतक, मुरवा (परह २, ३) । २ मांस (वा ५, ४; श्रौप) । ३ नरकावास-विशेष (सूत्र १, ५, १) । ४ शव का रविर, बसा वगैरह (भा ७, ६) ।

कुणकुग अक [कुणकुगाय] शीत से कम्प होने पर 'कड़कड़' आवाज करना । वक्र. कुणकुगंत (सुर २, १०३) ।

कुणहरिया स्त्री [दे.] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५) ।

कुतत्ती स्त्री [दे.] मनोरथ, वाग्द्वी (दे २, ३६) ।

कुतुंग पुं [कुस्तुम्ब] वाद्य-विशेष (राय ४६) ।

कुतुंगर पुं [कुस्तुम्बर] वाद्य-विशेष (राय ४६) ।

कुतुंग पुंन [कुतुंग] १ तेल बगैरह भरने का चमड़े का पात्र (दे ५, २२) । देखो कुडअ ।

कुत्त पुं [दे.] कुत्ता, कुक्कुर (रंभा) ।

कुत्त न [दे. कुतक] टैका, इजारा (विपा १, १—पत्र ११) ।

कुत्तार वि [कुत्तार] अयोग्य तारक (गच्छ १, ३०) ।

कुत्तिय पुंवी [दे.] एक तरह का कीड़ा, चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष; 'करालिय कुत्तिय विच्छू' (प्राप १७; पना ४१) ।

कुत्ती स्त्री [दे] कुत्ती, कुत्तुरी (रंभा) ।  
 कुत्थ अ [कुत्र] कहाँ, किस स्थान में ?  
 (उत्तर १०४) ।  
 कुत्थ सक [कोथय्] सड़ाना, नो वाज  
 हरेज्जा, नो सलिलं कुत्थिज्जा (पव १५८  
 टी), कुच्छे (? ल्वे) ज्जा (अणु १६१) ।  
 भवि. कुच्छि (? त्यि) हिई (पिड २३८) ।  
 क. कुत्थ (दसनि १०, २४) ।  
 कुत्थ देखो कठ । कुत्थसि, कुत्थमु (गा  
 ५०१ अ) ।  
 कुत्थण स्त्री [कोथन] सड़ना, सड़ जाना  
 (वव ४) ।  
 कुत्थर न [दे] १ विज्ञान (दे २, १३) । २  
 कोटर, वृक्ष की पोल, गह्वर (सुपा २४६) ।  
 ३ सर्प वगैरह का विल (उप ३५७ टी) ।  
 कुत्थल देखो कोथल; 'कुच्छ (? ल्वे) लस-  
 माणज्जरो' (वमंवि २७) ।  
 कुत्थुं व पुं [कुत्थुन्व] वाद्य-विशेष (राय) ।  
 कुत्थुंभरी स्त्री [कुत्थुन्वरी] वनस्पति-विशेष,  
 धनियाँ (परण १—पत्र ३१) ।  
 कुत्थुह पुं [कौस्तुभ] मणि-विशेष, जो  
 विष्णु की छाती पर रहती है (हेका २५७) ।  
 कुत्थुहवत्थ न [दे] नीवी, नारा, इजारवन्द  
 (दे २, ३८) ।  
 कुत्थे देखो कुओ (हे १, ३७) ।  
 कुद वि [दे] प्रभूत, प्रचुर (दे २, ३४) ।  
 कुदण पुं [दे] रासक, रासा (दे २, ३८) ।  
 कुदय पुं [कोद्व] वाच्य-विशेष, कोदों,  
 कोद्व (सम्य १२) ।  
 कुदाल पुं [कुदाल] १ भूमि खोदने का  
 साधन, कुदार, कुदारी (सुपा ५२६) । २  
 वृक्ष-विशेष (जं २) ।  
 कुद्व वि [कुद्व] कुपित, क्रोध-युक्त (महा) ।  
 कुपचि (पै) अ [कचित्] किसी जगह में  
 (प्राह १२३) ।  
 कुप्प सक [कुप्] कोप करना, गुस्सा  
 करना । कुप्पइ (उव; महा) । वक्क. कुप्पंत  
 (सुपा १६७) । क. कुप्पियच्च (स ६१) ।  
 कुप्प सक [भाप्] बोलना, कहना । कुप्पइ  
 (भवि) ।  
 कुप्प न [कुप्य] सुवर्ण और चाँदी को छोड़  
 कर अन्य धातु और मिट्टी वगैरह के बने हुए

गृह-उपकरण, 'लोहाई उवक्खरो कुप्प' (वृह  
 १; पडि) ।  
 कुप्पड पुं [दे] १ गृहाचार; घर का रिवाज ।  
 २ समुदाचार; सदाचार (दे २, ३६) ।  
 कुप्पर न [दे] सुरत के समय किया जाता  
 हृदय-ताड़न-विशेष । २ समुदाचार, सदाचार ।  
 ३ नर्म, हाँसी, ठट्ठा (दे २, ६४) ।  
 कुप्पर पुं [कूपर] १ कफोरिण, हाथ का  
 मध्य भाग । २ जानु, घुटना । ३ रथ का  
 अवयव-विशेष (जं ३) ।  
 कुप्पर पुं [कूपर] देखो कूपर । भीत की  
 परत, भीत का जीर्ण-शीर्ण घर; 'एयाओ  
 पाडलावंडुकुप्परा जुएणमिच्छिओ' (गउड) ।  
 कुप्पल देखो कुंपल (वि २७७) ।  
 कुप्पास पुं [कूपस] कञ्जुक, कांचली,  
 जनानी कुरती (हे १, ७२; कप्पु; पात्र) ।  
 कुप्पिय वि [कुपित] १ कुपित, कुद्व । २  
 न. क्रोध, गुस्सा; 'कुप्पियं नाम कुप्पियं'  
 (आहू ४) ।  
 कुप्पिस देखो कुप्पास (हे १, ७२; दे २,  
 ४०) ।  
 कुवेर पुं [कूवर] भगवान् मल्लिनाथ का  
 शासनाधिष्ठातक यक्ष (पव २६) ।  
 कुवेर पुं [कुवेर] भगवान् कुन्धुनाथ के प्रथम  
 श्रावक का नाम (विचार ३७८) ।  
 कुवेर पुं [कुवेर] १ कुवेर, यक्ष-राज, धनेश  
 (पात्र; गउड) । २ भगवान् मल्लिनाथ का  
 शासनाधिष्ठाता यक्ष विशेष (संति ८) । ३  
 काञ्चनपुर के एक राजा का नाम (पउम ७,  
 ४५) । ४ इस नाम का एक श्रेष्ठी (उप  
 ७२८ टी) । ५ एक जैन मुनि (कप्प) ।  
 दिसा पुं [दिश] उत्तर दिशा (सुर २,  
 ८५) । नयरी स्त्री [नगरी] कुवेर की  
 राजधानी, अलका (पात्र) ।  
 कुवेरा स्त्री [कुवेरा] जैन साधु-नाण की एक  
 शाखा (कप्प) ।  
 कुव्वड वि [दे] कुवड़ा, कुव्ज, वामन (धा  
 २७) ।  
 कुव्वर पुं [कूवर] वैश्रमण के एक पुत्र का  
 नाम (अंत ५) ।  
 कुभंड पुं [कुभाण्ड] देव-विशेष की जाति  
 (ठा २, ३—पत्र ८५) ।

कुभंडिद पुं [कुभाण्डेन्द्र] इन्द्र-विशेष,  
 कुभाण्ड देवों का स्वामी (ठा २, ३) ।  
 कुमर देखो कुमार (हे १, ६७; सुपा २४३;  
 ६५६; कुमा) ।  
 कुमरी देखो कुमारी (कप्पु; पात्र) ।  
 कुमार पुं [कुमार] १ प्रथम-वय का बालक,  
 पाँच वर्ष तक का लड़का (ठा १०; एया  
 १, २) । २ युवराज, राज्याहं पुरुष (परह  
 १, ५) । ३ भगवान् वासुपूज्य का शासना-  
 धिष्ठाता यक्ष (संति ७) । ४ लोहकार, लोहार;  
 'चवेडमुट्टिमाईहि कुमारेहि अयं पिव' (उत्त  
 २३) । ५ कार्तिकेय, स्कन्द (पात्र) । ६ युक्त  
 पक्षी । ७ घुड़सवार । ८ सिन्धु नदी । ९  
 वृक्ष-विशेष, वरुण-वृक्ष (हे १, ६७) । १०  
 अविवाहित, ब्रह्मचारी (सम ५०) । ११ गाम  
 पुं [ग्राम] ग्राम-विशेष (आचा २, ३) ।  
 ण्दि पुं [नन्दिन्] इस नाम का एक  
 सोनार (श्रावम) । धम्म पुं [धर्म] एक  
 जैन साधु (कप्प) । णाल पुं [पाल]  
 विक्रम की बारहवीं शताब्दी का गुजरात का  
 एक सुप्रसिद्ध जैन राजा (दे १, ११३ टी) ।  
 कुमार पुं [दे] कुआर का महीना, श्रावित्त  
 मास (ठा २, १) ।  
 कुमारा स्त्री [कुमारा] इस नाम का एक  
 संनिवेश, 'तयो भगवं कुमाराए संनिवेशे  
 गयो' (श्रावम) ।  
 कुमारिय पुं [कुमारिक] कसाई, सौनिक  
 (वृह १) ।  
 कुमारिया स्त्री [कुमारिका] देखो कुमारी  
 (पि ३५०) ।  
 कुमारी स्त्री [कुमारी] १ प्रथम वय की लड़की  
 २ अविवाहित कन्या (हे ३, ३२) । ३  
 वनस्पति-विशेष, धीकुआरी (पव ४) । ४  
 नवमल्लिका । ५ नदी-विशेष । ६ जम्बू-द्वीप  
 का एक भाग । ७ वनस्पति-विशेष, अप-  
 राजिता । ८ सीता । ९ बड़ी इलाची । १०  
 वन्या ककड़ी की लता । ११ पक्षि-विशेष  
 (हे ३, ३२) ।  
 कुमारी स्त्री [दे कुमारी] गौरी, पार्वती (दे  
 २, ३५) ।  
 कुमुअ पुं [कुमुद] १ इल नाम का एक  
 वानर (सं १, ३४) । २ महाविदेह-वर्ष का



एक विजय-युगल, भूमि-प्रदेप-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) । ३ न. चन्द्र-विकासी कमल (रागा १, ३—पत्र २६; से १, २६) । ४ संख्या-विशेष, कुमुदाङ्ग को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लव्य हो वह (जो २) । ५ शिखर-विशेष (ठा ८) । ६ वि. पृथ्वी में आनन्द पानेवाला । ७ तराव प्रीतिवाला (से १, २६) । देखो कुमुद ।

कुमुअ पुं [कुमुद] देव-विशेष (निरि ६६७) ।  
°चंद्र पुं [°चन्द्र] आचार्य सिद्धमेन दिवाकर की मुनि अवस्था का नाम (सम्मत १४१) ।

कुमुअंग न [कुमुदाङ्ग] संख्या-विशेष, 'महाकाल' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लव्य हो वह (जो २) ।

कुमुआ स्त्री [कुमुदा] ? इस नाम की एक पुष्करिणी (जं ४) । २ एक नगरी (दीव) ।

कुमुङ्गी स्त्री [कुमुदिनी] ? चन्द्र-विकासी कमल का पेड़ (कुमा; रंभा) । २ इस नाम की एक रानी (उप १०३१ टी) ।

कुमुद देखो कुमुअ (इक) । देव-विमान-विशेष (सम ३३; ३५) । °गुल्म न [°गुल्म] देव-विमान-विशेष (सम ३५) । °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (इक) । °प्राभा स्त्री [°प्राभा] इस नाम की एक पुष्करिणी (जं ४) । °वण न [°वण] मथुरा नगरी के समीप का एक जङ्गल (तो २१) । °गार पुं [°गार] कुमुद-पाण्ड, कुमुदों से भरा हुआ वन (पणह १, ४) ।

कुमुदंग देखो कुमुअंग (इक) ।

कुमुदंग न [कुमुदङ्ग] वृण-विशेष (सुअ २, २) ।

कुमुली स्त्री [दे] चुल्ली, चूल्हा (दे २, ३६) ।  
कुम्भ पुं [कुम्भ] कच्छप, कछुआ (पात्र) ।  
°गाम पुं [°गाम] मगध देश के एक गांव का नाम (भग १५) ।

कुम्भण वि [दे] म्लान, शूष्क, कुम्हलाघा हुआ (दे २, ४०) ।

कुम्मार पुं [कुमार] मगध देश के एक गांव का नाम (आचा २, १५, ५) ।

कुम्मास पुं [कुम्माप] ? अन्न-विशेष, उरद (श्रीघ ३५६; पणह २, ५) । २ बोड़ा नीजा हुआ मूंग वगैरह वाय्य (पणह २, ५—पत्र १४८) ।

कुम्मी स्त्री [कुर्मा] ? कछुई, कच्छपी ।  
२ नारद की माता का नाम (पउम ११, ५२) । °पुत्त पुं [°पुत्र] दो हाथ जंवा इस नाम का एक पुरुष, जिसने मुक्ति पाई थी (श्रीप) ।

कुम्ह पुं व. [कुदमन] देश-विशेष (हे २, ७४) ।  
कुम्हंड देखो कोहंड (प्राकृ २२) ।

कुम्हंडी देखो कोहंडी (प्राकृ २२) ।

कुय पुं [कुच] ? स्तन, थन । २ वि. शिथिल (वव ७) । ३ अस्थिर (निचू ?) ।

कुयवा स्त्री [दे] बली-विशेष (पणह १—पत्र ३३) ।

कुरंग पुं [कुरङ्ग] ? मृग की एक जाति (जं २) । २ कोई नो मृग, हरियण (पणह १, १; गउड) । स्त्री. °गी (पात्र) । °च्छी स्त्री [°च्छी] हरियण के नेत्र जैसे नेत्रवाली स्त्री, मृगनयनी स्त्री (वात्र २०) ।

कुरंटय पुं [कुरण्टक] वृक्ष-विशेष, पियवांसा (उप १०३१ टी) ।

कुरकुर देखो कुरकुर । वक्र. कुरकुराईत (रंभा) ।

कुरय पुं [कुरक] वनस्पति-विशेष (पणह १—पत्र ३५) ।

कुरय न [कुरवक] पुष्प-विशेष (वज्जा १०६) ।

कुरर पुं [कुरर] कुरर-भक्षी, उल्लोश (पणह १, १; उप १०२६) ।

कुररी स्त्री [दे] पशु, जानवर (दे २, ४०) ।

कुररी स्त्री [कुररी] ? कुरर पशु की मादा ।  
२ गाया छन्द का एक भेद (पिग) । ३ मेपी, मेढ़ी (रंभा) ।

कुरल पुं [कुरल] ? केश, बाल; 'कुरल-कुरलीहि कलियो तमालदलसामलो अइसणिदो' (सुपा २४; पात्र) । २ पक्षि-विशेष (जीव ?) ।

कुरली स्त्री [कुरली] ? केशों की बक्र सटा (सुपा १; २४) । २ कुरल-पक्षिणी; 'कुरलिव्व नहंगणे ममई' (पउम १७, ७६) ।

कुरवय पुं [कुरवक] वृक्ष-विशेष, कटनरैया (गा ६; मा ४०; विक्र २६; स ४१४; कुमा; दे ५, ६) ।

कुरा स्त्री [कुरा] वर्ष-विशेष, अकर्म भूमि-विशेष (ठा २, ३; १०) ।

कुरिण न [दे] वड़ा जंगल, भयंकर अटवी (श्रीघ ४४७) ।

कुरु पुं. व. [कुरु] ? आर्य देश-विशेष, जो उत्तर भारत में है (रागा १, ८; कुना) ।

२ भगवान् आदिनाथ का इस नाम का एक पुत्र (तो १४) । ३ अकर्म-भूमि विशेष (ठा ६) । ४ इस नाम का एक वंश (भवि) । ५ पुंस्त्री. कुरु वंश में उत्पन्न, कुरु वंशीय (ठा ६) । °अरा, °अरी देखो नीचे °चरा, °चरी (पट्) । °स्वत्त °क्वत्त न [°स्वत्त] ?

दिल्ली के पास का एक मैदान, जहाँ कौरव और पाण्डवों की लड़ाई हुई थी । २ कुरु देश की राजधानी, हस्तिनापुर नगर (भवि; तो १६) । °चंद्र पुं [°चन्द्र] इस नाम का एक राजा (वम्म; प्रावम) । °चर वि [°चर] कुरु देश का रहनेवाला । स्त्री. °चरा, °चरी (हे ३, २१) । °जंगल न [°जङ्गल] कुरु-भूमि, देश-विशेष (भवि; तो ७) । °गाह पुं [°गाह] दुर्गोचन (गा ४४३; गउड) ।

°दत्त पुं [°दत्त] इस नाम का एक श्रेष्ठी और जैन महर्षि (उत २; संवा) । °मई स्त्री [°मती] ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की पटरानी (सम १५२) । °राय पुं. [°राज] कुरु देश का राजा (ठा ७) । °वइ पुं [°पति] कुरु देश का राजा (उप ७२८ टी) ।

कुरुकुया स्त्री [कुरुकुचा] पाव का प्रसालन (श्रीघ ३१२) ।

कुरुकुर अक [कुरुकुराय] 'कुर-कुर' आवाज करना, कुलकुलाना, वड़वड़ाना । कुरुकुरायति (पि. ५५८) । वक्र. कुरुकुराअंत (कप्प) ।

कुरुकुरिअ न [दे] स्वारणक, श्रोत्रमुच्य (दे २, ४२) ।

कुरुगुर देखो कुरुकुर । कुल्युरेति (स ५०३) ।  
कुरुचिह पुं [दे] ? कुलीर, जल-जन्तु-विशेष ।  
२ न. ग्रहण, उपादान (दे २, ४१) । देखो कुरुचिह ।

कुरुच वि [दे] अप्रिय, अप्रिय (दे २, ३६) ।  
कुरुड वि [दे] ? निर्दय, निष्ठुर (दे २, ६३; भवि) । २ निपुण, चतुर (दे २, ५३; भवि) ।  
कुरुग न [दे] राजा का या दूसरे का धन (राज) ।

कुरुमाल सक [दे] टटोलना, धीरे धीरे हाथ फेरना । वक्र. कुरुमालंत (कुप्र ४४) ।

कुर्य न [दे. कुरुक] माया, कपट (सम ७१)।  
कुर्या स्त्री [दे. कुरुका] शरीर-प्रज्ञालन,  
नान (वव १)।

कुरुर देखो कुरुर (कुमा)।

कुरल पुं [दे] १ कुटिल केश, टेढ़ा बाल (दे  
२, ६३; भवि)। २ वि. निर्दय। ३ निपुण,  
चतुर (दे २, ६३)।

कुरल अक [कु] आवाज करना, कौए का  
बोलना। कुरलहि (भवि)।

कुरलिअ न [कुत] वायस का शब्द, कौए  
की आवाज (भवि)।

कुरव देखो कुर (पउम ११८, ८३; भवि)।

कुरवग देखो कुरवग (सुपा ७७)।

कुरविद पुं [कुरविन्द] १ मणि-विशेष, रत्न  
की एक जाति (गउड)। २ तृण-विशेष  
(परह १; परह १, ४—यत्र ७८)। ३

कुटिलक-नामक रोग, एक प्रकार का जंघा  
रोग; 'एणीकुर्विदचतवट्टाणुपुञ्जजे' (श्रौप)।

°वित्त पुं [°वित्त] भूषण-विशेष (कप्प)।

कुरविदा स्त्री [कुरविन्दा] इस नाम की एक  
वाणिग्भाषा (पउम ५५, ३८)।

कुरविह [दे] देखो कुरचिह (पाय)।

कुल पुं [कुल] १ कुल, वंश, जाति (प्राप्  
१७)। २ पेटुक वंश (उत्त ३)। ३ परिवार,  
कुटुम्ब (उप ६, ७७)। ४ सजातीय समूह  
(परह १, ३)। ५ गोत्र (सुपा ८; ठा ४, १)।

६ एक आचार्य की संतति (कप्प)। ७ घर,  
गृह (कप्प; सूय १, ४, १)। ८ साम्प्रिय,  
सामोष्य (आचा)। ९ ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध

नक्षत्र-संज्ञा (सुज १०; इक); 'कुलो, कुल'  
(हे १, ३३)। °उच्च पुं [°पूर्व] पूर्वज,  
पूर्व-पुरुष (गउड)। °कम पुं [°क्रम]

कुलाचार, वंश-परम्परा का रिवाज (सट्टि  
७४)। °कर देखो नीचे °गर (ठा १०)।

°कोडि स्त्री [°कोटि] जाति-विशेष (पव  
१५१; ठा ६; १०)। °कम देखो कम  
(सट्टि ६)। °गर पुं [°कर] कुल की स्थापना

करनेवाला, युग के प्रारम्भ में नीति वगैरह की  
व्यवस्था करनेवाला महापुरुष (सम १२६;  
वण ५)। °गेह न [°गेह] पितृ-गृह (सण)।

°घर न [°गृह] पितृ-गृह (श्रौप)। °ज वि  
[°ज] कुलीन; खानदानी कुल में उत्पन्न

(द्र ५)। °जाय वि [°जात] कुलीन, खान-  
दानी कुल का (सुपा ५६८; पाय)। °जुअ  
वि [°युत] कुलीन (पव ६४)। °णाम न

[°नामन] कुल के अनुसार किया जाता नाम  
(अणु)। °तंतु पुं [°तन्तु] कुल-संतान,  
कुल-संतति (वव ६)। °तिलग पुं न

[°तिलक] कुल में श्रेष्ठ (भग ११, ११)।  
°स्थ वि [°स्थ] कुलीन, खानदानी वंश का  
(णाय १, ५)। °स्थेर पुं [°स्थविर] श्रेष्ठ

साधु (पंच)। °दिगयर पुं [°दिनकर]  
कुल में श्रेष्ठ (कप्प)। °दीव पुं [°दीप]

कुल प्रकाशक, कुल में श्रेष्ठ (कप्प)। °देव  
पुं [°देव] गोत्र-देवता (काल)। °देवया

स्त्री [°देवता] गोत्र-देवता (सुपा ५६७)।  
°देवी स्त्री [°देवी] गोत्र-देवी (सुपा ६०२)।

°धम्म पुं [°धर्म] कुलाचार (ठा १०)।  
°पव्वय पुं [°पर्वत] पर्वत-विशेष (सम ६६;  
सुपा ४३)। °पुत्त पुं [°पुत्र] वंश-रक्षक

पुत्र (उत्त १)। °वालिया स्त्री [°वालिका]  
कुलीन कन्या (सुर १, ४३; हेका ३०१)।

°भूसण न [°भूषण] १ वंश को दिपाने या  
चमकाने वाला। २ पुं. एक केवली भगवान्  
(पउम ३६, १२२)। °मय पुं [°मद] कुल का

श्रमिमान (ठा १०)। °मयहरिया, °महत्त-  
रिया स्त्री [°महत्तरिका] कुल में प्रधान

स्त्री, कुटुम्ब की मुखिया (सुपा ७६; आवम)।  
°य देखो °ज (सुपा ५६८)। °रोग पुं

[°रोग] कुल व्यापक रोग (जं २)। °वइ पुं  
[°पति] तापसों का मुखिया, प्रधान संन्यासी

(सुपा १६०; उप ३१)। °वंस पुं [°वंश]  
कुल रूप वंश, वंश (भग ११, १०)। °वंस

पुं [°वंश्य] कुल में उत्पन्न, वंश में संजात  
(भग ६, ३३)। °वडिसय पुं [°वतंसक]

कुल-भूषण, कुल-दीपक (कप्प)। °वहू स्त्री  
[°वधू] कुलीन स्त्री, कुलाङ्गना (आव ५;  
पि ३८७)। °संपण्ण वि [°संपन्न] कुलीन,

खानदानी कुल का (श्रौप)। °समय पुं  
[°समय] कुलाचार (सूय १, १, १)।

°सेल पुं [°शैल] कुल-पर्वत (सुपा ६००;  
सं ११६)। °सेलय स्त्री [°शैलजा] कुल

पर्वत से निकली हुई नदी; कुलसंन्यायि  
सरिया नृणं नीययरमणुसरइ (सुपा ६००)।

°हर न [°गृह] पितृगृह, पिता का घर (गा  
१२१; सुपा ३६४; से ६, ५३)। °जोव

वि [°जोव] अपने कुल की वड़ाई बतला  
कर आजीविका प्राप्त करनेवाला (ठा ५, १)।

°य न [°य] पक्षी का घर, नोड़ (पाय)।  
°यार पुं [°आचार] कुलाचार वंश-परम्परा

से चला आता रिवाज (वव १)। °रिय पुं  
[°रिय] पितृ-पक्ष की अंपेक्षा से आर्य (ठा ३,  
१)। °लय वि [°लय] गृहस्थों के घर

भीख मांगनेवाला (सूय २, ६)।  
कुलं कर पुं [कुलंकर] इस नाम का एक राजा  
(पउम ८२, २६)।

कुलं प पुं [कुलंम्प] इस नाम का एक अनार्य  
देश। २ उसमें रहनेवाली जाति (सूय २, २)।

कुलकुल देखो कुरकुर। कुलकुलइ (भवि)।  
कुलक्ख पुं [कुलक्ख] १ एक म्लेच्छ देश।  
२ उसमें रहनेवाली जाति (परह १, १; इक)।

कुलाग्व पुं [कुलार्घ] एक अनार्य देश (पव  
२७४)।  
कुलडा स्त्री [कुलटा] व्यभिचारिणी स्त्री,  
पुंश्चली (सुपा ३८४)।  
कुलथ पुं [कुलथ] अन्न-विशेष, कुलथी  
(ठा ५, ३; णाय १, ५)। स्त्री. °त्था (आ  
१८)।  
कुलफंसण पुं [दे] कुल-कलंक, कुल का दाग,  
कुल की आपकीति (दे २, ४२; भवि)।  
कुलय देखो कुडव (तंडु २६; अणु १५१)।  
कुलय न [कुलक] तीन या चार से ज्यादा  
परस्पर सापेक्ष पद्य (समत्त ७६)।  
कुलल पुं [कुलल] १ पक्षि-विशेष (परह १,  
१)। २ गृध्र पक्षी (उत्त १४)। ३ कुरर  
पक्षी (सूय १, ११)। ४ मार्जार, बिड़ाल;  
'जहा कुक्कुडपायस्स णिच्चं कुललमो भय'  
(दस ४)।  
कुललय पुं न [दे] कुल्ला, गंडूप (पव ३८)।  
कुलय देखो कुडव (जो २)।  
कुलसंतइ स्त्री [दे] चूली, चूल्हा (दे २, ३६)।  
कुलाअल पुं [कुलाअल] कुलपर्वत (त्रि ८२)।  
कुलाण देखो कुणाल (राज)।  
कुलाल पुं [कुलाल] कुम्भकार, कुम्हार (पाय;  
गउड)।

कुलाल पुं [कुलाट] ? मात्रार, विलाड़ ।  
२ ब्राह्मण, विप्र (सूत्र २, ६) ।

कुलिगाल पुं [कुलाङ्गार] कुल में कलंक  
लगानेवाला, दुराचारी (आ ४, १—पत्र  
१८५) ।

कुलिअ न [कुलिफ] खेत में घास काटने का  
छोटा काष्ठ-विशेष (अणु ४८) ।

कुलिक } पुं [कुलिक] ? ज्योतिष-शास्त्र  
कुलिय } में प्रसिद्ध एक कुयोग (अणु १८) ।  
२ न. एक प्रकार का हल (परह १, १) ।

कुलिय न [कुल्य] ? भीत, मित्ति (सूत्र १,  
२, १) । २ मिट्टी की बनाई हुई भीत (बृह  
२; कस) ।

कुलिया स्त्री [कुलिका] भीत, कुञ्च (बृह २) ।

कुलिर पुं [कुलिर] मेघ वगैरह वारह राशि  
में चतुर्थ राशि (पञ्च १७, १०८) ।

कुलिञ्चय पुं [कुटिप्रत] परिव्राजक का एक  
मेद, तापस-विशेष, घर में ही रहकर क्रोधादि  
का विजय करनेवाला (श्रौष) ।

कुलिस पुंन [कुलिश] वज्र, इन्द्र का मुख्य  
आयुध (पात्र; उच ३२० टी) । °निगाय पुं  
[°निनाद] रावण का इस नाम का एक सुभट  
(पञ्च ५६, २६) । °मज्ज न [°मध्य]  
एक प्रकार की तपश्चर्या (पञ्च २२, २४) ।

कुलीकोस पुं [कुटीकोश] पक्षि-विशेष (परह  
१, १—पत्र ८) ।

कुलीण वि [कुलीन] उत्तम कुल में उत्पन्न  
(प्राम् ७१) ।

कुलीर पुं [कुलीर] जन्तु-विशेष (पात्र; दे २  
४१) ।

कुलुंच सक [दह, स्तौ] ? जलाना । २  
ग्लान करना । संक्ष. 'मालइकुमुमाइं कुलु-  
चिऊण मा जाणि णिण्णुओ सिन्निरो' (गा  
४२६) ।

कुलुक्खिय वि [दे] जला हुआ, 'विरह्दवग्नि-  
कुलुक्खिकायहो' (नवि) ।

कुलोचकुल पुं [कुलोपकुल] वे चार नक्षत्र—  
अभिजित, शतनिपा, आर्द्रा और अनुषावा  
(सूत्र १०, ५) ।

कुल्ल पुं [दे] ? घोड़ा, कण्ठ । २ वि. अस्-

मयं, अशक्त । ३ छिन्न-पुच्छ, जिसकी पूँछ  
कट गई हो वह (दे २, ६१) ।

कुल्ल पुंन [दे] चूतड़; पुनराती में 'कुलो'  
(सूत्र ८, १३) ।

कुल्ल अक [कुल्ल] कूटना । वक्ष. 'मादईरक-  
साण वलं मुक्कवुक्कारपाइक्ककुल्लंतवंगंतसे-  
णामुहं' (पञ्च ५३, ७६) ।

कुल्लउर न [कुल्यपुर] नगर-विशेष (संवा) ।

कुल्लड न [दे] ? कुली, चूल्हा (दे २, ६३) ।  
२ छोटा पात्र, पुडवा (दे २, ६३; पात्र) ।

कुल्लरिअ पुं [दे] कान्दविक, हलवाई, मिठाई  
बनानेवाला (दे २, ४१) ।

कुल्लरिया स्त्री [दे] हलवाई की दूकान  
(आवम) ।

कुल्ला स्त्री [कुल्या] ? जल की नाली, सारिणी  
(कुमा; हे २, ७६) । २ नदी, कृत्रिम नदी  
(कप्पू) ।

कुल्लाग पुं [कुल्ल्याक] संनिवेश-विशेष, मगध  
देश का एक गांव (कप्पू) ।

कुल्ला देखो कुल्ला (वर्नवि ११२) ।

कुल्लुडिया स्त्री [कुल्लुडिका] घटिका, घड़ी  
(सूत्र १, ४, २) ।

कुल्लुरी स्त्री [दे] लाघ-विशेष, पुनराती—  
'कुलेर' (पत्र ४) ।

कुल्लूरिअ [दे] देखो कुल्लरिअ (महा) ।

कुल्लु दुं [दे] शृगाल, सियार (दे २, ३४) ।

कुवणय न [दे] लकड़, घटि, लड़की, छड़ी  
(राज) ।

कुवल्लय न [कुवल्लय] ? नीलोत्पल, हरा रंग  
का कमल (पात्र) । २ चन्द्र-विकासी कमल  
(श्रा २७) । ३ कमल, पद्म (गा ५) ।

कुवली स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष (कुप्र २४६) ।

कुविद पुं [कुविन्द] तनुवाय, कपड़ा बुनने-  
वाला (सुपा १८८) । °वल्ली स्त्री [°वल्ली]  
वल्ली-विशेष (परण १—पत्र ३३) ।

कुविय वि [कुपित] कुड, जिसको गुस्ता  
हुआ हो वह (परह १, १; सुर २, ५; हेका  
७३; प्राम् ६४) ।

कुविय देखो कुप्प = कुप्प (परह १, ५; सुपा  
४०६) । °साला स्त्री [°शाला] विद्योना  
आदि गृहोपकरण रखने की कुटिया, घर का  
वह भाग जिसमें गृहोपकरण रखे जाते हैं  
(परह १, ४—पत्र ११३) ।

कुवेणी स्त्री [कुवेणी] शस्त्र-विशेष, एक प्रकार  
का हथियार (परह १, ३—पत्र ४४) ।

कुवेर देखो कुवेर (महा) ।

कुव्व सक [कु, कुव्व] करना, बनाना । कुव्वइ  
(भग) । भूका. कुव्विया (पि ५, १७) । वक्ष.  
कुव्वंत, कुव्वमाण (श्रौष १५ भा; णाया  
१, २) ।

कुस पुंन [कुशा] वृक्ष-विशेष, दम, डाम,  
काश (विपा १, ६; निचू ?) । २ पुं दाश-  
रथी राम के एक पुत्र का नाम (पञ्च १००,  
२) । °ग्ग [°ग्र] दम का अग्र-भाग जो  
अत्यन्त तीक्ष्ण होता है (उत्त ७) । °ग्गनयर

न [°प्रनगर] नगर-विशेष, विहार का एक  
नगर, राजगृह, जो आजकल 'राजगिर' नाम  
से प्रसिद्ध है (पञ्च २, ६८) । °ग्गपुर न

[°प्रपुर] देखो पूर्वोक्त अर्थ (सुर १, ८१) ।

°ट्ट पुं [°यत्त] आर्य देश-विशेष (सत्त ६७  
टी) । °ट्ट पुं [°यत्त] आर्य देश-विशेष, जिसकी

राजधानी शौर्यपुर थी (इक) । °त्त न [°क्त,  
°क्त] आन्तरण-विशेष, एक प्रकार का

विद्योना (णाया १, १—पत्र १३) । °त्थल-  
पुर न [°त्थलपुर] नगर-विशेष (पञ्च २१,  
७६) । °मट्टिया स्त्री [°मृत्तिका] डाम के

साथ कुटी जाती मिट्टी (निचू १८) । °वर पुं  
[°वर] द्वीप-विशेष (अणु—टी) ।

कुस वि [कुशा] दम का बना हुआ (आचा  
२, २, ३, १४) ।

कुसण न [दे] तीमन, आर्द्र करना (दे २,  
३५) ।

कुसण न [दे] गोरस (पिड २८२) ।

कुसणिय वि [दे] गोरस से बना हुआ कस्मा  
आदि लाघ, 'कुनु. (? स) णियंति' (पिड  
२८२ टी) ।

कुसल वि [कुशल] ? निपुण, चतुर, दक्ष,  
अभिन्न (आचा; णाया १, २) । २ न. सुख,  
हित (राय) । ३ पुण्य (पंचा ६) ।

कुसला स्त्री [कुशला] नगरी-विशेष, विनीता,  
अयोध्या (आवम) ।

कुसार देखो कूसार (स ६८६) ।

कुसी स्त्री [कुशी] लोहे का बना हुआ एक  
हथियार (दे ८, ५) ।

कुसीलव पुं [कुशीलव] अभिनयकर्ता नट (कण्) ।

कुसुंभ पुं [कुसुम्भ] १ वृक्ष-विशेष, कसुम, वरं (ठा ८—पत्र ४०५) । २ न. कुसुम का पुष्प, जिसका रंग वनता है (जं २) । ३ रंग-विशेष (था १२) ।

कुसुंभिअ वि [कुसुम्भिअ] कुसुम्भ रंगवाला (था १२) ।

कुसुंभिल पुं [दे] पिशुन, दुर्जन, दुर्गलखोर (दे २, ४०) ।

कुसुंभी स्त्री [कुसुम्भी] वृक्ष-विशेष, कुसुम का पेड़ (पात्र) ।

कुसुम अक [कुसुमय्] फूल आना । कुसुमंति (संवेव ४७) ।

कुसुम न [कुसुम] १ पुष्प, फूल (पात्र; प्रासू ३४) । २ पुं. इस नाम का भगवान् पद्मप्रम का शासनाधिष्ठायक यक्ष (संति ७) । °केतु पुं [°केतु] अत्यवर द्वीप का अधिष्ठायक देव (दीव) । °चाय, °चाव पुं [°चाप] कामदेव, मकरवृक्ष (सुपा ५६; ५३०; महा) । °ज्मय पुं [°ज्मय] वसन्त ऋतु (कुमा) । °णयर न [°नगर] नगर-विशेष, पाटलिपुत्र, आजकल जो 'पटना' नाम से प्रसिद्ध है (आवम) । °दंत पुं [°दन्त] एक तीर्थङ्कर देव का नाम, इस अवसर्पिणी काल के नववें जिनदेव, श्री सुविधिनाथ (पउम १, ३) । °दाम न [°दामन्] फूलों की माला (जवा) । °धणु न [°धनुप] कामदेव (कुमा) । °पुर न [°पुर] देखो ऊपर °णयर (उप ४८६) । वाण पुं [°वाण] कामदेव (सुर ३, १६२; पात्र) । °रअ पुं [°रजस्] मकरन्द (पात्र) । °रद पुं [°रद] देखो दंत (पउम २०, ५) । °लया स्त्री [°लया] छन्द-विशेष (अजि १५) । °संभव पुं [°संभव] मधुमास, चैतमास (अणु) । °सर पुं [°शर] कामदेव (सुर ३, १०६) । °अर पुं [°अर] इस नाम का एक छन्द (पिंग) । °अह पुं [°अयुध] काम, कामदेव (स ५३८) । °वई स्त्री [°वती] इस नाम की एक नगरी (पउम ५, २६) । °सव पुं [°सव] किजल्क, पराग, पुष्प-रेणु (गाया १, १; औप) ।

कुसुमसंभव पुं [कुसुमसम्भव] वैशाख मास का लोकोत्तर नाम (सुज १०; १६) ।

कुसुमाल वि [कुसुमवत्] फूलवाला (स ६६७) ।

कुसुमाल पुं [दे] चोर, स्तेन (दे २, १०) ।

कुसुमालिअ वि [दे] शून्य-मनस्क, भ्रान्त-चित्त (दे २, ४२) ।

कुसुमिअ वि [कुसुमित] पुष्पित, पुष्प-युक्त, खिला हुआ (गाया १, १; पउम ३३, १४८) ।

कुसुमिल्ल वि [कुसुमवत्] ऊपर देखो (सुपा २२३) ।

कुसुर [दे] देखो भसुर (हे २, १७४ टि) ।

कुसूल पुं [कुशल] कोष्ठ, अन्न रखने के लिए मिट्टी का बना एक प्रकार का बड़ा पात्र (पात्र) ।

कुसुमिण पुं [कुसुमिण] दुष्ट स्वप्न (संवेव ४२) ।

कुह अक [कुथ्] सड़ जाना, दुर्गन्धी होना । कुहइ (भवि; हे ४, ३६५) ।

कुह पुं [कुह] वृक्ष, पेड़, गाछ; 'कुहा महीरहा वच्छा' (दत्तनि १) ।

कुह देखो कंहं (गा ५०७ अ) ।

कुहंड पुं [कुहमाण्ड] व्यन्तर देवों की एक जाति (औप) ।

कुहंड न [कुहमाण्ड] १ कुहड़ा, पेठा, कोहड़ा (कम्म ५, ८५) ।

कुहंडिया स्त्री [कुहमाण्डी] कोहड़ा का गाछ (राय) ।

कुहक्क } देखो कुहय (धर्मवि १३५; कुप्र ८) ।  
कुहग }

कुहग पुं [कुहक] कन्द-विशेष, 'लाहिणीह य थोहू य, कुहगा य तहेव य' (उत्त ३६, ६६ का) ।

कुहड वि [दे] कुञ्ज, कूबड़ा (दे २, ३६) ।

कुहण पुं [कुहण] १ वृक्षों का एक प्रकार, वृक्षों की एक जाति; 'सि किं तं कुहणा? कुहया अणेगविहा परणत्ता' (परण १—पत्र ३५) । २ वनस्पति-विशेष । ३ भूमि-स्फोट (परण १—पत्र ३०; आचा) । ४ देश-विशेष । ५ इसमें रहनेवाली जाति (परह १, १—पत्र १४; इक) ।

कुहण वि [क्रोधन] क्रोधी, क्रोध करनेवाला (परह १, ४—पत्र १००) ।

कुहणी स्त्री [दे] कूपर, हाथ का मध्य-भाग (सुपा ४१२) ।

कुहय पुं [कुहक] १ वायु-विशेष, दौड़ते हुए अश्व के उदर-प्रदेश के समीप उत्पन्न होता एक प्रकार का वायु; 'घणगज्जिय-हयकुहए (गच्छ २) । २ इन्द्रजालादि कौतुक; 'अलोणुए अक्कुहए अमाई (दस ६, ३) ।

कुहर न [कुहर] १ पर्वत का अन्तराल (गाया १, १—पत्र ६३); 'गिहं वित्तरहिअं गिज्जरकुहरं व सलिलमुएणविअं' (गा ६०७) । २ छिद्र, विल, विवर (परह १, ४; पामू २) । ३ पुं. व. देश-विशेष (पउम ६८, ६७) ।

कुहाड पुं [कुठार] कुल्हाड़, फरसा (विपा १, ६; पउम ६६, २४; स २:४) ।

कुहाडी स्त्री [कुठारी] कुल्हाड़ी, कुठार (उप १६३) ।

कुहावणा स्त्री [कुहना] १ आश्चर्य-जनक, दम्भ-क्रिया, दम्भ-चर्या । २ लोगों से द्रव्य हासिल करने के लिए किया हुआ कपट-भेष (जीत) ।

कुहिअ वि [दे] लिप्त, पोता हुआ (दे २, ३५) ।

कुहिअ वि [कुथित] १ थोड़ी दुर्गन्धवाला (गाया १, १२—पत्र १७३) । २ सड़ा हुआ (उप ५६७ टी) । ३ विनष्ट (गाया १, १) । °पूइय वि [पूतिक] अत्यन्त सड़ा हुआ (परह २, ५) ।

कुहिणी स्त्री [दे] १ कूपर, हाथ का मध्य भाग । २ रथ्या, महल्ला (दे २, ६२) ।

कुहिल पुं स्त्री [कुहुमत्] कोयल पक्षी (पिंग) । कुहु स्त्री [कुहु] कोकिल पक्षी की आवाज (पिंग) ।

कुहुण देखो कुहण = कुहन (उत्त ३६, ६६ का) ।

कुहुवय पुं [कुहुवत्] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६८) ।

कुहेड पुं [दे] ओपवी-विशेष, गुरेटक, एक प्रकार का हरे का गाछ (दे २, ३५) ।

कुहेड पुं [कुहेट, क] १ चमत्कार कुहेडअ } उपजानेवाला मन्त्र-तन्त्रादि ज्ञान;

‘कुहेडविजासवदारजीवी न गच्छई सरणं तन्मि काले’ (उत्त २०, ४५) । २ आभाणक, वक्रोक्ति-विशेष; ‘तेसु न विम्वइइ सयं आह-दुहुहेइएहि व’ (पव ७३ टी; वृह १) ।

कुहेडग पुंन [दे] अजमा (पंचा ५, ३०) । कुहेडगा स्त्री [कुहेटका] कन्द-विशेष, पिरडालु (पव ४) ।

कूअ देखो कूय = कूप (चंड; हंमीर ३०) । कूअग न [कूजन] १ अव्यक्त शब्द । २ वि. ऐसी आवाज करनेवाला (ठा ३, ३) ।

कूअगथा स्त्री [कूजनता] कूजन, अव्यक्त शब्द (ठा ३, ३) ।

कूइआ स्त्री [कूपिका] कूई, छोटा कूप (चंड) । कूइय न [कूजित] अव्यक्त आवाज (महा; सुर ३, ४८) ।

कूइया स्त्री [कूजिका] किवांड आदि का अव्यक्त आवाज (पिड ३५६ टी) ।

कूचिआ स्त्री [कूचिका] दाढ़ी-मूँछ का बाल (संवाच ३१) ।

कूचिया स्त्री [कूचिका] बुदबुद, बुलबुला, पानी का बुलका (विसे १४६७) ।

कूज अक [कूज्] अव्यक्त शब्द करना । कूजाहि (चार २१) । वक्र. कूजंत (मै २६) । कूजिअ न [कूजित] अव्यक्त आवाज (कुमा; मै २६) ।

कूड सक [कूट्य्] १ भूडा ठहराना । २ अयया करना । कूडे (आणु ५० टी) ।

कूड पुं [दे. कूट] पाश, फाँसी, जाल (दे २, ४३; राय; उत्त ५; सूत्र १, ५, २) ।

कूड पुंन [कूट] १ असत्य, छल-युक्त, भूडा; ‘कूडबुलकूडमारो’ (पडि) । २ भ्रान्ति-जनक वस्तु (भग ७, ६) । ३ भाया, कपट, छल, दगा, धोखा (सुपा ६२७) । ४ नरक (उत्त ५) । ५ पीड़ा-जनक स्थान, दुःखोत्पादक जगह (सूत्र १, ५, २; उत्त ६) । ६ शिखर, टाँच (ठा ४, २; रंभा) । ७ पर्वत का मध्य भाग (जं २) । ८ पापाणमय यन्त्र-विशेष, मारने का एक प्रकार का यन्त्र (भग १५) । ९ समूह, राशि (निर १, १) । १० कारि वि [कारिन्] बोखेवाज, दगाखोर (सुपा ६२७) । ११ ग्गाह पुं [ग्गाह] बोखे से जीवों को फँसानेवाला (विपा १, २) । स्त्री. ग्गाहणी

(विपा १, २) । १० जाल न [जाल] बोखे का जाल, फाँसी (उत्त १६) । ११ तुला स्त्री [तुला] भूठी नाप, वनावटी नाप (उवा १) । १२ पास न [पाश] एक प्रकार की मछली पकड़ने का जाल (विपा १, ८) । १३ पओग पुं [प्रयोग] प्रच्छन्न पाप (आव ४) । १४ लेह पुं [लेख] १ जाली लेख, दूसरे के हस्ताक्षर-तुल्य अक्षर बना कर बोखे-वाजी करना । २ दूसरे के नाम से भूठी चिट्ठी वगैरह लिखना (पडि; उवा) । १५ वाहि पुं [वाहिन्] बैल, बलीवदं (आव ५) । १६ सक्ख न [साक्ष्य] भूठी गवाही (पंचा १) । १७ सक्खि वि [साक्षिन्] भूठी साक्षी देनेवाला (आ १४) । १८ सक्खिज्ज न [साक्ष्य] भूठी गवाही (सुपा ३७५) । १९ सामलि स्त्री [शात्मलि] १ वृक्ष-विशेष के आकार का एक स्थान, जहाँ गहड़-जातीय देवों का निवास है (सम १३; ठा २, ३) । २ नरक स्थित वृक्ष-विशेष (उत्त २०) । १० गार न [गार] १ शिखर के आकारवाला घर (ठा ४, २) । २ पर्वत पर बना हुआ घर (आचा २, ३, ३) । ३ पर्वत में खुदा हुआ घर (निचू १२) । ४ हिंसा-स्थान (ठा ४, २) । ११ गारसाला स्त्री [गारशाला] पड्यन्न वाला घर, पड्यन्न करने के लिए बनाया हुआ घर (विपा १, ३) । १२ इच्च न [हित्य] पापाण-मय यन्त्र की तरह मारना, कुचल डालना (भग १५) ।

कूड न [कूट] १ पाश, जाल, फाँस, फंदा (सूत्र १, ५, २, १८; राय ११४) । २ लगातार २७ दिन का उपवास (संवाच ५८) ।

कूडग देखो कूड (आवम) ।

कूण अक [कूण्य्] संकुचित होना, संकोच पाना (गउड) ।

कूणिअ वि [कूणित] संकोच-प्राप्त, संकोचित (गउड) ।

कूणिअ वि [दे] ईपद् विकसित, थोड़ा खिला हुआ (दे २, ४४) ।

कूणिअ पुं [कूणिक] राजा श्रेणिक का पुत्र (श्रीप) ।

कूणिय वि [कूणित] नड़ा हुआ (कुप्र १६०) ।

कूय अक [कूज्] अव्यक्त आवाज करना । वक्र. कूर्यंत, कूर्यमाण (श्रीप २१ भा; विपा १, ७) ।

कूय पुं [कूप] १ कूप, कुँआ (गउड) । २ धो, तेल वगैरह रखने का पात्र, कुतुप (आया १, १—पव ५८; श्रीप) । ३ ददुर पुं [ददुर] १ कूप का मेड़क । २ वह मनुष्य जो अपना घर छोड़ बाहर न गया हो, अल्पज्ञ (उप ६४८ टी) । देखो कूय ।

कूर वि [कूर] १ निर्दय, निष्कृप, हिंसक (पएह १, ३) । २ भयंकर, रौद्र (आया १, ८; सूत्र १, ७) । ३ पुं. रावण का इस नाम का एक सुभट (पउम ५६, २६) ।

कूर पुंन [कूर] वनस्पति-विशेष (सूत्र २, ३, १६) ।

कूर न [कूर] भात, ओदन (दे २, ४३) । गडुअ, गडुअ पुं [गडुक] एक जैन महर्षि (आचा; भाव ८) ।

कूर अ [ईपत्] थोड़ा, अल्प (हे २, १२६; पड्) ।

कूरपिउड न [दे] भोजन-विशेष, खाद्य-विशेष (आवम) ।

कूरि वि [कूरिन्] १ निर्दयी, क्रूर चित्तवाला । २ निर्दय परिवारवाला (पएह १, ३) ।

कूल न [दे] सैन्य का पिछला भाग (दे २, ४३; से १२, ६२) ।

कूल न [कूल] तट, किनारा (पात्र; आया १, १६) । धमग पुं [ध्मायक] एक प्रकार का वानप्रस्थ जो किनारे पर खड़ा हो आवाज कर भोजन करता है (श्रीप) । वालग, वालय पुं [वालक] एक जैन मुनि (आव; काल) ।

कूलकंसा स्त्री [कूलकपा] नदी, तीर को तोड़नेवाली नदी (विगी १२०) ।

कूय पुंन [दे] १ चुराई चीज की खोज में जाना (दे २, ६२; पात्र) । २ चुराई चीज को छुड़ानेवाला, छीनी हुई चीज को लड़ाई वगैरह कर वापस लेनेवाला; ‘तए एं सा दोवदी देवी पउमणामं एवं वयासी—एवं जलु देवां जंबुदीवे दीवे भारहे वामं वारव-तीए रायरीए करहेणं वामुदेवे मम पियभाएणं परिवसति; तं जइ एं से छएहं

मासाएणं ममं कूचं नो हव्वमागच्छइ, तए णं अहं देवा० जं तुमं वदसि तस्स आणाओवा-यवयणएणिहेसे चिद्धिस्सामि' (णाया १, १६—पत्र २१५); 'दोवइए कूचग्गाहा' (उप ६४८ टी; दे ६, ६२)।

कूच } पुं [कूप, क] १ कूप, कुआ, कूचग } गत्तं (प्रासू ४५)। २ स्नेह-पात्र, कूचय } कुतुप, कुप्पा (वजा ७२; उप पृ ४१२)। ३ जहाजका मध्य स्तम्भ, जहांपर पाल बांधा जाता है (औप; णाया १, ८)। तुला ली [तुला] कूपतुला, ढंकुवा (दे १, ६३; ८७)। मंडुक पुं [मण्डुक] १ कूप का मेढक। २ अल्पज्ञ मनुष्य, जो अपना घर छोड़ बाहर न जाता हो (निचू १)। कूचय पुं [कूपक] देखो कूच = कूप (रण ३२)। स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि (अंत ३)।

कूचर पुंन [कूचर] १ जहाज का एक अवयव, जहाज का मुख-भाग; 'संभुरिणायकट्टकूचरा' (णाया १, ६—पत्र १५७)। २ रथ या गाड़ी वगैरह का एक अवयव, युग्मचर (से १२; ८४)।

कूचल न [दे] जवन-वल्ग (दे २, ४३)।

कूचिय न [कूजित] अव्यक्त शब्द, 'तह कहवि कुणइ सो सुरयकूचियं तप्पुरो जेण' (सुपा ५०८)।

कूचिय पुं [कूपिक] इस नाम का एक संनि-वेश—गांव (आवम)।

कूचिय वि [दे] मोप-व्यावर्त्तक, चुराई हुई चीज की खोज कर उसे खानेवाला (णाया १, १८—पत्र २३६)। २ चोर की खोज करनेवाला (णाया १, १)।

कूचिया ली [कूपिका] १ छोटा कूप (उप ७२८ टी)। २ छोटा स्नेह-पात्र, कुप्पी (राज)। कूची ली [कूपी] ऊपर देखो, 'एयाओ अमय-कूचीओ' (उप ७२८ टी)।

कूसार पुं [दे] गत्ताकार, गत्तं जैसा स्थान, खड्डा; 'कूसारखलंतपओ' (दे २; ४४; पात्र)।

कूहंड पुं [कूप्माण्ड] व्यन्तर देवों की एक जाति (पएह १, ४)।

के सक [की] कीनना, खरीदना। केइ, केअइ (पइ)।

के° वि [क्रियत्] कितना? °चिरेण अ [°चिरेण] कितने समय में? (अंत २४)। °चिरं अ [°चिरं] कितने समय तक? (पि १४६)। °चिरेण देखो °चिरेण (पि १४६)। °दूर न [°दूर] कितना दूर? 'केदूरे सा पुरी लंका?' (पउम ४८, ४७)। °महालय वि [°महालय] कितना बड़ा? (णाया १, ८)। °महालय वि [°महत्] कितना बड़ा? (पएण २१)। °महिड्डिय वि [°महद्धिक] कितनी बड़ी ऋद्धिवाला (पि १४६)।

केअइ पुं [केकय] देश-विशेष, जिसका आधा भाग आर्य और आधा भाग अनार्य है, सिन्धु देश की सीमा पर का देश (इक); 'केयइ-अइहं च आरियं भणियं' (पएण १; सत्त ६७ टी)।

केअई ली [केतकी] वृक्ष-विशेष, केवड़ा का वृक्ष (कुमा; दे ८, २५)।

केअग } पुं [केतक] १ वृक्ष-विशेष, केवड़ा केअय } का गाछ, केतकी (गउड)। २ न. केतकी-पुष्प, केवड़ा का फूल (गउड)। ३ चिन्ह, निशान (ठा १०)।

केअगी ली [केतकी] १ केवड़ा का गाछ या पौधा। २ केवड़ा का फूल (राय ३४)।

केअल देखो केवल (अभि २६)।

केअव देखो कइअव = कैतव; 'जं केअवेण पिम्मं' (गा ७४४)।

केआ ली [दे] रज्जु, रस्सी (दे २, ४४; भग १३, ६)।

केआर पुं [केदार] १ क्षेत्र, खेत (सुर २, ७८)। २ आलवाल, क्यारी (पात्र; गा ६६०)।

केआरवाण पुं [दे] वृक्ष-विशेष, पलाश का पेड़ (दे २, ४५)।

केआरिआ ली [केदारिका] घासवाली जमीन, गोचर भूमि (कप्पू)।

केउ पुं [केतु] १ ध्वज, पताका (सुपा २२६)। २ ग्रह-विशेष (सुज २०; गउड)।

३ चिन्ह, निशान (औप)। ४ तुल-सूत्र, हई का सूता (गउड)। °खेत्त न [°क्षेत्र] मेघ-वृष्टि से ही जिसमें अन्न पैदा हो सकता हो ऐसा क्षेत्र-विशेष (आव ६)। °मई ली [°मती]

किन्नरेण और किपुरुपेन्द्र की अन्न-महिषी का नाम, इन्द्राणी-विशेष (भग १०, ५; णाया २)। °माल न [°माल] वैताव्य पर्वत पर स्थित इस नाम का एक विद्याधर-नगर (इक)। केउ पुं [दे] कन्द, कांदा (दे २, ४४)। केउ पुंन [केतु] एक देवविमान (देवेन्द्र १३४)।

केउग } पुं [केतुक] पाताल-कलश-विशेष केउय } (सम ७१; ठा ४, २—पत्र २२६)। केऊर पुंन [केयूर] १ हाथ का आभूषण-विशेष, अज्जद, वाजूवन्द (पात्र; भग ६, ३३)। २ पुं. दक्षिण समुद्र का पाताल-कलश (पव २७२)।

केऊरपुत्त पुं [दे] गाय तथा भैंस का वच्चा (संक्षि ४७)।

केऊव पुं [केयूप] दक्षिण समुद्र का एक पालाल-कलश (इक)।

केऊय अक [केऊय] 'के-के' आवाज करना। वृह. 'पेच्छइ तओ जड़ाणि केऊयंतं महीपडियं' (पउम ४४, ५४)।

केसुअ देखो किसुअ (कुमा)।

केकई ली [केकयी] १ राजा दशरथ की एक रानी, केकय देश के राजा की कन्या (पउम २२, १०८; उप पृ ३७)। २ आठवें वासुदेव की माता (सम १५२)। ३ अपर-विदेह के विभीषण-वासुदेव की माता (आवम)।

केकय पुं [केकय] १ देश-विशेष, यह देश प्राचीन वाह्लीक प्रदेश के दक्षिण की ओर तथा सिंधु देश की सीमा पर स्थित है। २ इस देश का रहनेवाला (पएह १, १)। ३ केकय देश का राजा (पउम २२, १०८)।

केकसिया ली [केकसिका] रावण की माता का नाम (पउम ७, ५४)।

केका ली [केका] मयूर-वाणी। °रव पुं [°रव] मयूर की आवाज, मयूर-शब्द (णाया १, १—पत्र २५)।

केकाइय न [केकायित] मयूर का शब्द (सुपा ७६)।

केकई देखो केकई (पउम ७६, २६)।

केकय देखो केकय (पव २७४)।

केकसी ली [केकसी] रावण की माता (पउम १०३, ११४)।

केकाइय देखो केकाइय (साया १, ३—पत्र ६५) ।

केगाई देखो केकाई (पउम १, ६४; २०, १८४) ।

केगाइय देखो केकाइय (राज) ।

केज्ज वि [क्रेय] बेचने की चीज (ठा ६) ।

केड } पुं [कैटभ] ? इस नाम का एक  
केडय } प्रतिवामुदेव राजा (पउम ५, १५६) । २ दैत्य-विशेष (हे १, २४०; कुमा) । ३ रिउ पुं [रिपु] श्रीकृष्ण, नारायण (कुमा) ।

केत्त देखो केत्तिअ (हात्य १३६) ।

केत्तिअ } वि [कियत्] कितना ? (हे २, केत्तिल } १५७; कुमा; पड; महा) ।

केत्तुल (अप) ऊपर देखो (कुमा; पड; हे ४, ४०८) ।

केथु (अप) अ [कुत्र] कहाँ, किस जगह ? (हे ४, ४०५) ।

केदह देखो केत्तिअ (हे २, १५७; प्राप्र) ।

केम } (अप) देखो कहं (पड; हे ४, ४०१; केम्व } ४१८) ।

केय न [केत] ? गृह, घर । २ चिह्न, निशानी (पव ४) ।

केयण न [केतन] ? वक्र वस्तु, टेढ़ी चीज । २ चंगेरी का हाथा (ठा ४, २—पत्र २१८) ।

३ संकेत, संकेत-स्थान (नव ४) । ४ धनुष की मूठ (उत्त ६) । ५ मछली पकड़ने का जाल (सूत्र १, ३, १) । ६ स्थान, जगह (आचा) । ७ 'कडवल्लसंठिन' (सूत्र० चूर्णी. पत्र ८२ गा० १७६) ।

केयय देखो केकय (सुपा १४२) ।

केयव्व वि [क्रेतव्व] खरीदने योग्य वस्तु (उत्त ३५, १५) ।

केर } वि [दे. संवन्धिन्] संवन्धी वस्तु,  
केरय } संवन्धी चीज (स्वप्न ५१; हे ४, ३५६; ३७३; प्राप्र; नवि) ।

केरव न [कैरव] ? कुमुद, सफेद कमल (पाप्र; सुपा ४६) । २ कैतव, कपट (हे १, १५२) ।

केरिच्छ वि [कीट्त्] कैसा, किस तरह का ? (हे १, १०५; प्राप्र; काल) ।

केरिस वि [कीट्श] कैसा, किस तरह का ? (प्राप्ता) ।

केरी वी [ककटी] वृक्ष-विशेष, करीर का गच्छ; 'निर्ववोरिकेरि—' (उप १०३१ टी) ।

केल देखो कयल = कदल (हे १, १६७) ।

केलाइय वि [समारचित] साफनुयरा किया हुआ (कुमा) ।

केलाय सक [समा + रचय] समारचन करना, साफ कर ठीक करना । केलायइ (हे ४, ६५) ।

केलास पुं [कैलास] राहु का कृष्ण पुद्गल-विशेष (सुत्र २०) ।

केलास पुं [कैलास] ? स्वनाम-प्रसिद्ध पर्वत-विशेष (से ६, ७३; गउड; कुमा) । २ इस नाम का एक नाग-राज (इक) । ३ इस नाग-राज का आवास-पर्वत (ठा ४, २) । ५ मिट्टी का एक तरह का पात्र (निर १, ३) । देखो कइलास ।

केलि देखो कयलि (कुमा) ।

केलि वी [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६८; सुख ३६, ६८) ।

केलि } वी [कलि, ली] ? क्रीड़ा, खेल,  
केली } मजाक (कुमा; पाप्र; कप्पु) । २ परि-

हास, हाँसी, ठट्टा (पाप्र; अप) । ३ काम-क्रीड़ा (कप्पु; अप) । ४ आर वि [कार]

क्रीड़ा करनेवाला, विनोदी (कप्पु) । ५ काणग न [कानन] क्रीड़ाघान (कप्पु) । ६ किल,

गिल वि [किल] ? विनोदी, क्रीड़ा-प्रिय (सुपा ३१४) । २ पुं. व्यन्तर-जातीय देव-

विशेष (सुपा ३२०) । ३ पुं. स्थान-विशेष (पउम ५५, १७) । ४ भवण न [भवन]

क्रीड़ा-गृह, विलास-घर (कप्पु) । ५ विमाण न [विमान] विलास-महल (कप्पु) ।

६ सअण न [शयन] काम-शय्या (कप्पु) । ७ सेजा वी [शय्या] काम-शय्या (कप्पु) ।

केली देखो कयली (हे १, १२०) ।

केली वी [दे] असती, कुलटा, व्यभिचारिणी वी (दे २, ४४) ।

केलीगिल वि [कैलीकिल] कैलीकिल स्थान में उत्पन्न (पउम ५५, १७) ।

केव° देखो के° (भग; पएण १७—पत्र ५४५; वित्ते २८६१) ।

केव° (अप) देखो कहं (कुमा) ।

केवइय वि [कियत्] कितना ? (सम १३४; वित्ते ६४६ टी) ।

केवइ पुं [कैवत्त] धीवर, मच्छलीमार, मछुआ (पाप्र; स २५८; हे २, ३०) ।

केवड (अप) देखो केत्तिअ (हे ४, ४०८; कुमा) ।

केवल वि [केवल] ? अकेला, असहाय (ठा २, १; अप) । २ अनुपम, प्रद्वितीय (नग ६, ३३) । ३ शुद्ध, अन्य वस्तु से अमिश्रित (दस ४) । ४ संपूर्ण, परिपूर्ण (निर १, १) ।

५ अनन्त, अन्त-रहित (वित्ते ८४) । ६ न. ज्ञान-विशेष, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, भूत, भावी वगैरह सर्व वस्तुओं का ज्ञान, सर्वज्ञता (वित्ते ८२७) ।

७ कप्प वि [कल्प] परिपूर्ण, संपूर्ण (ठा ३, ४) । ८ णाण न [ज्ञान] सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान (ठा २, १) । ९ णाणि, णाणि

वि [ज्ञानिन्] ? केवल-ज्ञानवाला, सर्वज्ञ (कप्प; अप) । २ पुं. इस नाम के एक अर्हन् देव, अतीत उत्सर्पणी-काल के प्रथम तीर्थंकर (पव ६) । ३ णाण, णाण; णाण

देखो णाण (वित्ते ८२६; ८२६; ८२३) । ४ दंसण न [दर्शन] परिपूर्ण सामान्य बोध (कम्म ४, १२) ।

केवलं अ [केवलम्] केवल, सिफं, मात्र (स्वप्न ६२; ६३; महा) ।

केवलाअ सक [समा + रभ्] आरम्भ करना, शुरू करना । केवलायइ (पड) ।

केवलि वि [केवलिन्] केवल ज्ञानवाला, सर्वज्ञ (भग) । २ पक्खिय वि [पाच्छिक] ? स्वयंबुद्ध । २ पुं. जिनदेव, तीर्थंकर (भग ६, ३१) ।

केवलिअ वि [केवलिक] ? केवलज्ञानवाला (भग) । २ परिपूर्ण, संपूर्ण; 'सामाइयं केवलियं पसत्वं' (वित्ते २६८१) ।

केवलिअ वि [कैवलिक] ? केवल-ज्ञान से संबन्ध रखनेवाला (दं १७) । २ केवलि-प्रोक्त (सूत्र १, १४) । ३ केवल-ज्ञानि-संबन्धी (ठा ४, २) । ४ न. केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान (आव ४) ।

केवलिअ न [कैवल्य] केवल ज्ञान, 'केवलिए संपत्ते' (सत्त ६७ टी; वित्ते ११८०) ।

केवली स्त्री [केवली] ज्योतिष विद्या-विशेष (हास्य १२६, १२६)।

केस पुं [केश] केश, बाल (उप ७६८ टी; प्रयो २६)। °पुर न [°पुर] वैजात्य पर स्थित एक विद्याधर-नगर (इक)। °लोअ पुं [°लोच] केशों का उन्मूलन (भग; परह २, ४)। °वाणिज्ज न [°वाणिज्य] केश-वाले जीवों का व्यापार (भग ८, ५)। °हृथ, °हृथय पुं [°हस्त, °क] केशपाश, समारचित केश, संयत बाल (कप्प; पात्र)।

केस देखो केरिस। स्त्री. °सी (अणु १३१)। केस देखो किलेस (उप ७६८ टी; धम्म २२)।

केसर पुं [कवीश्वर] उत्तम कवि, श्रेष्ठ कवि (उप ७२८ टी)।

केसर पुंन [केसर] एक देवविमान (देवेन्द्र १४२)।

केसर पुंन [केसर] १ पुष्प-रेणु, पराग, किजल्क (से १, ५०; दे ६, १३)। २ सिंह वगैरह के कंधा का बाल, केसरा (से १, ५०; सुपा २१५)। ३ पुं. वकुल वृक्ष (कप्प; गउड; पात्र)। ४ न. इस नाम का एक उद्यान, काम्पिल्य नगर का एक उपवन (उत्त १७)। ५ फल-विशेष (राज)। ६ सुवर्ण, सोना। ७ छन्द-विशेष (हे १, १४६)। ८ पुष्प-विशेष (गउड ११२२)।

केसरा स्त्री [केसरा] १ सिंह वगैरह के स्कन्ध पर के बालों की सदा, 'केसरा य सीहाणं' (प्रामू ५१; गउड; प्रामा)।

केसरि पुं [केसरिन्] १ सिंह, वनराज, कण्ठीरव (उप ७२८ टी; से ८, ९४; परह १, ४)। २ हृद-विशेष, नीलवन्त पर्वत पर स्थित एक हृद (सम १०४)। ३ नृप-विशेष, भरत-क्षेत्र के चतुर्थ प्रति वामुदेव (सम १५४)। °दह पुं [°द्रह] द्रह-विशेष (ठा २, ३)।

केसरिआ स्त्री [केसरिका] साफ करने का कपड़े का टुकड़ा (भग; विसे २५५२ टी)।

केसरिल्ल वि [केसरवत्] केसरवाला (गउड)।

केसरी स्त्री [केसरी] देखो केसरिआ; 'तिदं-

उकुडियद्धत्तल्लुयंकुसपवित्तयकेसरोहत्वगए' (गाया १, ५—पत्र १०५)।

केसव पुं [केशव] १ अर्ध-चक्रवर्ती राजा (सम)। २ श्रीकृष्ण वामुदेव, नारायण (गउड)।

केसि वि [केशिन्] क्लेश-युक्त, किन्ट (विसे ३१५४)।

केसि पुं [केशि] १ एक जैन मुनि, भगवान् पार्वनाथ के शिष्य (राय; भग)। २ असुर-विशेष, अश्व के ह्व को धारण करनेवाला एक दैत्य, जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था (मुद्रा २६२)।

केसि पुं [केशिन्] देखो केसव (पउम ७५, २०)।

केसिअ वि [केशिक] केशवाला, बाल-युक्त। स्त्री. °आ (सूत्र १, ४, २)।

केसी स्त्री [केशी] सातवें वामुदेव की माता (पउम २०, १८४)।

°केसी स्त्री [°केशी] केशवाली स्त्री, 'विइएण-केसी' (उवा)।

केसुअ देखो किंसुअ (हे १, २६; ८६)।

केह (अप) वि [कीहश] कैसा, किस तरह का? (भवि; पड; कुमा)।

केहिं (अप) अ. लिए, वास्ते (हे ४, ४२५)।

कैअव न [कैतव] कपट, धम्म (हे १, १; गा १२४)।

कोअ देखो कोक (दे २, ४५ टी)।

कोअ देखो कोव (गउड)।

कोअंड देखो कोइंड (पात्र)।

कोआस अक [वि + कस्] विकसना, खिलना। कोआसइ (हे ४, १६५)।

कोआसिय वि [विकसित] विकसित, प्रकुल, खिला हुआ (कुमा; जं २)।

कोइल पुं [कोकिल] १ कोयल, पिक (परह १, ४; उप २३; स्वप्न ६१)। २ छन्द का एक भेद (पिंग)। °च्छय पुं [°च्छद] वनस्पति-विशेष, तलकण्टक (परह १७—पत्र ५२७)।

कोइला स्त्री [कोकिला] स्त्री-कोयल, पिकी; 'कोइला पंचमं सरं' (अणु; पात्र)।

कोइला स्त्री [दे] कोबला, काष्ठ के अंगार (दे २, ४६)।

कोउआ स्त्री [दे] गोइडा की अग्नि, करीपाग्नि (दे २, ४८; पात्र)।

कोउग } न [कौतुक] १ कुतूहल, अपूर्व वस्तु  
कोउय } देखने का अभिलाष (सुर २, २२६)।

२ आरचयं, विस्मय (वव १)। ३ उत्सव (राय)। ४ उत्सुकता, उत्कण्ठा (पंचव १)।

५ दृष्टि-दोषादि से रक्षा के लिए किया जाता काजल का तिलक, रक्षा-वन्धनादि प्रयोग (राय; श्रौप; विपा १, १; परह १, २; वर्म ३)।

६ सोभाग्य आदि के लिए किया जाता स्नपन, विस्मापन, धूम, होम वगैरह कर्म (वव १, १४)।

कोउण्ह वि [कटुण्ण] थोड़ा गरम (वर्मवि ११३)।

कोउहल } देखो कुऊहल (हे १, ११७;  
कोउहल } १७१; २, ६६; कुमा; प्राप्र)।

कोउहल्लि वि [कुनुहल्लिन्] कुतूहली, कौतुकी, कुतूहल-प्रिय (कुमा)।

कोऊहल } देखो कुऊहल (कुमा; पि ६१)।  
कोऊहल्ल }

कोंकण पुं [कोङ्कण] देश-विशेष (स ४१२)।

कोंकणग पुं [कोङ्कणक] १ अनार्य देश-विशेष (इक)। २ वि. उस देश में रहनेवाला (परह १, १; विसे १४१२)।

कोंच पुं [कौञ्च] १ इस नाम का एक अनार्य देश (परह १, १)। २ पक्षि-विशेष (ठा ७)।

३ द्वीप-विशेष (ती ४५)। ४ इस नाम का एक असुर (कुमा)। ५ वि. कौञ्च देश का निवासी (परह १, १)। °रिपु पुं [°रिपु] कार्तिकेय, स्कन्द (कुमा)। °वर पुं [°वर] इस नाम का एक द्वीप (अणु-टी) °वीरग पुं [°वीरक] एक प्रकार का जहाज (वृह १)। देखो कुंच।

कोंचिगा स्त्री [कुञ्चिका] ताली, कुंजी (उप १७७)।

कोंचिय वि [कुञ्चित] आकुञ्चित, संकुचित (परह १, ४)।

कोंटलय न [दे] १ ज्योतिष-सम्बन्धी सूचना। २ शकुनादि निमित्त-सम्बन्धी सूचना; 'पण्डजणे कोंटलयस्त' (शोध २२१ भा)।

कोंठ देखो कुंठ (हे १, ११६ पि)।

कोंड देखो कुंड (हे १, २०२)।



कौंड पुं [कौण्ड, गौंड] देश-विशेष (इक) ।  
 कौंडल देखो कुंडल (राज) । 'मेत्तग पुं  
 [मित्रक] एक व्यन्तर देव का नाम (बृह  
 ३) ।  
 कौंडलग पुं [कुण्डलक] पक्षि विशेष (श्रीप) ।  
 कौंडलिआ स्त्री [दे] ? श्वापद जन्तु-विशेष,  
 साही, स्वावित् । २ श्लोडा, कीट (दे २, ५०) ।  
 कौंडिअ पुं [दे] ग्राम-निवासी लोगों में फूट  
 कराकर छल से गाँव का मालिक बन बैठने-  
 वाला (दे २, ४८) ।  
 कौंडिणपुर न [कौण्डिनपुर] नगर-विशेष  
 (रुक्मि ५१) ।  
 कौंडिया देखो कुंडिया (परह २, ५) ।  
 कौंडिण देखो कौंडिन (राज) ।  
 कौंड देखो कुंड (हे १, ११६) ।  
 कौंडुल्लु पुं [दे] उच्चक, उल्लू, पक्षि-विशेष  
 (दे २, ४६) ।  
 कौंत देखो कुंत (परह १, १ सुर २, २८) ।  
 कौंतल देखो कुंतल = कुन्तल (प्राकृ ६,  
 संक्षि ४) ।  
 कौंती देखो कुंती (राया १, १६—पत्र  
 २१३) ।  
 कौंभी देखो कुंभी (प्राकृ ६) ।  
 कौक पुं [कोक] ? चक्रवाक पक्षी (दे ८,  
 ४३) । २ वृक, मेड़िया (इक) ।  
 कौकंतिय पुं [दे] जन्तु-विशेष, लोमड़ी,  
 लोखरिया (परह १, १) । स्त्री. 'या (राया  
 १, १—पत्र ६५) ।  
 कौकणद् देखो कौकणय (संश्लेष ४७) ।  
 कौकणय न [कौकणद्] ? रक्त कुमुद । २  
 लाल कमल (परह १; स्वप्न ७२) ।  
 कौकासिय [दे] देखो कौकासिय (परह  
 १, ४—पत्र ७८) ।  
 कौकुइय देखो कुन्कुइअ (ठा ६—पत्र ३७१) ।  
 कौक सक [व्या + ह] बुलाना, आह्वान  
 करना । कौकइ (हे १, ७६; पङ्) । वृक.  
 कौकंत (कुमा) । संकृ. कौकिवि (भवि) ।  
 प्रयो. कौकवाइ (भवि) ।  
 कौकास पुं [कौकास] इस नाम का एक  
 वर्षिक, बड़ई (श्राव १) ।  
 कौकासिय [दे] देखो कौकासिय (दे २,  
 ५०) ।

कौकिय वि [व्याहृत] आहृत, बुलाया हुआ  
 (भवि) ।  
 कौककुइय देखो क्वकुइअ (कस; श्रीप) ।  
 कौकुइय देखो खोखुइय वृक. कौकुइयमाण  
 (पि ३१६) ।  
 कौचप्प न [दे] श्लीक-हित, सूखी भलाई,  
 दिखावटी हित (दे २, ४६) ।  
 कौचिय पुं [दे] शैलक, नया शिष्य (वव  
 ६) ।  
 कौच्छ न [कौत्स] ? गोत्र-विशेष । २ पुं. स्त्री.  
 कौत्स गोत्र में उत्पन्न (ठा ५—पत्र ३६०) ।  
 कौच्छ वि [कौश्] ? कुक्षि सम्बन्धी, उदर से  
 सम्बन्ध रखनेवाला । २ न. उदरदेशः  
 'गणियायारकणेरकाल्य (? च्छ) हर्षी' (राया  
 १, १—पत्र ६४) ।  
 कौच्छभास पुं [दे. कुत्सभास] काक,  
 कौशा, वायस; 'न मणी सयराहस्सो श्रावि-  
 ष्कइ कौच्छभासस्स' (उव) ।  
 कौच्छेअय देखो कुच्छेअय (हे १, १६१;  
 कुमा; पङ्) ।  
 कौज देखो कुज (कम्प) ।  
 कौजप्प न [दे] स्त्री-रहस्य (दे २, ४६) ।  
 कौजय देखो कुजय (राया १, ८—पत्र  
 १२५) ।  
 कौजरिअ वि [दे] श्रापूरित, पूर्ण किया हुआ,  
 भरा हुआ (पङ्) ।  
 कौज्जरिअ वि [दे] ऊपर देखो (दे २,  
 ५०) ।  
 कोटर देखो कोट्टर (चिइय १५१) ।  
 कोट्टिय पुं [दे] गौ (निशिय ३५६५ गा०) ।  
 कोट्टुंभ पुं [दे] हाथ से आहत जल, 'कोट्टुंभो  
 जलकरप्फालो' (पात्र) । देखो कोट्टुंभ ।  
 कोटीवरिस अ [कोटीवर्य] लाट देश की  
 प्राचीन राजधानी (विचार ४६) ।  
 कोट्ट देखो कुट्ट = कुट्टु । कवक. कोट्टिजमाण  
 (श्रावम) । संकृ. कोट्टिय (जीव ३) ।  
 कोट्ट न [दे] ? नगर, शहर (दे २, ४५) ।  
 २ कोट, किला, दुर्ग (राया १, ८—पत्र  
 १३४; उक्त ३०; वृह १; सुपा ११८) ।  
 'वाल पुं [पाल] कोटवाल, नगर-रक्षक  
 (सुपा ४१३) ।

कोट्टितिया स्त्री [कुट्टयन्तिका] विज कोट्ट  
 को चूने का उपकरण (राया १, ७—पत्र  
 ११७) ।  
 कोट्टिकिरिया स्त्री [कोट्टिकिया] देवी-विशेष,  
 दुर्गा आदि स्त्र. रूपवाली देवी (श्राव २५) ।  
 कोट्टण देखो कुट्टण (उव १७६; परह १, १) ।  
 कोट्टर देखो कोडर (महा; हे ४, ४२२; गा  
 ५६३ अ) ।  
 कोट्टवीर पुं [कोट्टवीर] इस नाम का एक  
 मुनि, श्रावार्थ शिवभूति का एक शिष्य (विसे  
 २५५२) ।  
 कोट्टा स्त्री [दे] ? गीरी, पार्वती (दे २,  
 ३५—१, १७४) । २ गला, गर्दन (उव  
 ६६१) ।  
 कोट्टाग पुं [कोट्टाक] ? वर्षिक, बड़ई  
 (श्राव २, १; २) । २ न. हरे फलों को  
 मुसलने का स्थान-विशेष (वृह १) ।  
 कोट्टिय पुं [दे] द्रोणी, नौका, जहाज (दे  
 २, ४७) ।  
 कोट्टिम पुं [कुट्टिम] ? रत्नमय भूमि  
 (राया १, २) । २ फरस-बंध जमीन, बंधी  
 हुई जमीन (जं १) । ३ भूमि-तल (सुर ३,  
 १००) । ४ एक या श्रेणिक तलावाला घर  
 (वव ४) । ५ भोंपड़ी, मड़ी । ६ रत्न की  
 खान । ७ श्रनार का पड़ (हे १, ११६;  
 प्राप्र) ।  
 कोट्टिम वि [कुट्टिम] बनावटी, बनाया  
 हुआ, श्रुकुदरती (पउम ६६, ३६) ।  
 कोट्टिल पुं [कौट्टिक] मुग्दर, मुगरी, मुगरा,  
 कोट्टिल } जोड़ी (राज; विपा १, ६—पत्र ६६;  
 ६६) ।  
 कोट्टी स्त्री [दे] ? दोह, दोहन । २ विपम  
 स्थलना (दे २, ६४) ।  
 कोट्टुंभ पुं [दे] हाथ से आहत जल,  
 'कोट्टुंभं करहए तोए' (दे २, ४७) ।  
 कोट्टुम अक [रम्] श्लोडा करना, रमण  
 करना । कोट्टुमइ (हे ४, १६८) ।  
 कोट्टुवाणी स्त्री [कोट्टुवाणी] जैन मुनि-  
 गण की एक शाखा (कम्प) ।  
 कोट्ट देखो कुट्ट = कुट्ट (भग १६, ६; राया  
 १, १७) ।

कोट्ट पुं [कोष्ट] १ वारणा, अवधारित अर्थ का कालान्तर में स्मरण-योग्य अवस्थान (एदि १७६)। २ सुगन्धी द्रव्य-विशेष (राय ३४)।

कोट्ट देको कुट्ट = कोष्ठ (राया १, १; ठा ३, १; पात्र)। ३ आश्रय-विशेष, कोट्टय आवास-विशेष (श्रीप २००; त्रव १)। ४ अपवरक, कोठरी (दस ५, १; उव ४८६)। ५ चैत्य-विशेष (राया २, १)।

°गार न [°गार] वायु भरने का घर (श्रीप; कप्प)। २ भाएडागार, भंडार (राया १, १)।

कोट्टार पुंन [कोट्टागार] भाएडागार, भंडार; (पउम २, ३)।

कोट्टि वि [कुष्टिन्] कुष्ठ रोगी (आचा)। कोट्टिया व्री [कोष्टिका] छोटा कोष्ठ, लघु कुशूल (उवा)।

कोट्टु पुं [कोष्ट] शृगाल, सियार (पड)।

कोडंड देको कोदंड (स २५६)।

कोडंडिय देको कोदंडिय (कप्प)।

कोडंन [दे] कार्य, काम, काज (दे २, २)।

कोडय [दे] देको कोडिअ (पात्र)।

कोडर न [कोटर] गह्वर, वृक्ष का पोल भाग, विवर (गां ५६२)।

कोडल पुं [कोटर] पक्षि-विशेष (राज)।

कोडाकोडि व्री [कोटाकोटि] संख्या-विशेष, करोड़ को करोड़ से गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह (सम १०५; कप्प; उव)।

कोडाल पुं [कोडाल] १ गोत्र-विशेष का प्रवर्तक पुरुष। २ न. गोत्र-विशेष (कप्प)।

कोडि व्री [कोटि] १ धनुष का अग्र भाग (राय ११३)। २ भेद, प्रकार (पिड ३६५)।

कोडि व्री [कोटि] १ संख्या विशेष, करोड़, १००००००० (राया १, ८; सुर १, ६७; ४, ६१)। २ अग्र-भाग, अणी, नोक (सि १२, २६; पात्र)। ३ अंश, विभाग, भाग; 'नयिकको पएसो लोए वालगकोडिमित्तोवि' (पव्व ३६; ठा ६)। °कोडि देको कोडा-कोडि (सुपा २६६)। °वद्ध वि [°वद्ध] करोड़ संख्यावाला (वव ३)। °भूमि व्री [°भूमि] एक जैन तीर्थ (ती ४३)। °सिला व्री [°सिला] एक जैन तीर्थ (पउम ४८,

६६)। °सो अ [°सस] करोड़ों, अनेक करोड़ (सुपा ४२०)। देको कोडी।

कोडिअ न [दे] १ छोटा मिट्टी का पात्र, लघु सराव, सकोरा (दे २, ४७)। १ पुं. पिशुन, दुर्जन, चुंगलखोर (पड)।

कोडिअ पुं [कोटिक] १ एक जैन मुनि (कप्प)। २ एक जैन-मुनि-गण (कप्प; ठा ६)।

कोडिअ वि [कोटित] संकोचित (धर्मसं ३८८)।

कोडिण्ण } न [कौडिन्य] १ इस नाम का कोडिन्न } एक नगर (उप ६४८ टी)। २

वाशिष्ठ गोत्र की शाखा हव एक गोत्र (कप्प)।

३ पुं. कौडिन्य गोत्र का प्रवर्तक पुरुष। ४

वि. कौडिन्य-गोत्रीय (ठा ७—पत्र ३६०; कप्प)। ५ पुं. एक मुनि, जो शिवभूति का

शिष्य था (विसे २५५२)। ६ महागिरि-

सूरि का शिष्य, एक जैन मुनि (कप्प)। ७

गोतम-स्वामी के पास दीक्षा लेनेवाले पांच

सौ तापतों का गुरु (उप १४२ टी)।

कोडिन्ना व्री [कौण्डिन्या] कौडिन्य-गोत्रीय व्री (कप्प)।

कोडिल्ल पुं [दे] पिशुन, दुर्जन, चुंगलखोर (दे २, ४०; पड)।

कोडिल्ल देको कोट्टिल्ल (राज)।

कोडिल्ल पुं [कौटिल्य] इस नाम का एक ऋषि, चाणक्य मुनि (वव १; अणु)।

कोडिल्लय न [कोटिल्यक] चाणक्य-प्रणीत नीति-शास्त्र (अणु)।

कोडिसाहिय न [कोटिसहित] प्रत्याख्यान विशेष, पहले दिन उपवास करके दूसरे दिन भी उपवास की ली जाती प्रतिज्ञा (पव ४)।

कोडी देको कोडि (उव; ठा ३, १; जो ३७)। °करण न [°करण] विभाग, विभजन (पिड ३०७)। °गार न [°गार] इस नाम का लोरठ देश का एक नगर (ती ५६)। °मातसा व्री [°मातसा] गन्वार ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७—पत्र ३६३)। °वरिस न [°वर्ष] लाट देश की राजधानी, नगर-विशेष (इक; पव १७४)। °वरिसिया व्री [°वर्षिका] जैन मुनि-गण की एक

शाखा (कप्प)। °सर पुं [°श्वर] करोड़ पति, कोटीश (सुपा ३)।

कोडीण न [कोडीण] १ इस नाम का एक गोत्र, जो कौत्स गोत्र की एक शाखा हव है। २ वि. इस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०)।

कोडुंन न [दे] कार्य, काज (दे २, २)।

कोडुंवि देको कुडुंवि (ठा ३, १—पत्र १२५)।

कोडुंविय पुं [कौटुम्बिक] १ कुटुम्ब का स्वामी, परिवार का स्वामी, परिवार का मुखिया (भग)। २ ग्राम-प्रधान, गाँव का आदमी (पएह १, ५—पत्र ६४)। ३ वि. कुटुम्ब में उत्पन्न, कुटुम्ब से सम्बन्ध रखने-वाला, कुटुम्ब-सम्बन्धी (महा; जीव ३)।

कोडूसग पुं [कोदूपक] अन्न-विशेष, कोदों की एक जाति (राज)।

कोडु [दे] देको कुडु (दे २, ३३; स ६४१; ६४२; हे ४, ४२२; राया १, १६—पत्र २२४; उप ८६२; भवि)।

कोडुम देको कोट्टुम (कुमा)।

कोडुमिअ न [रत] रति-कोड़ा-विशेष (कुमा)।

कोडुय वि [दे] कुतुहली, कौतुकी, विनोद-शील, उत्कण्ठित (उप ७६८ टी)।

कोडुड पुं [कुष्टि] रोग-विशेष, कुष्ठ-रोग कोडु } पि ६६; राया १, १३; था २०)।

कोडि वि [कुष्टिन्] कुष्ठ-रोग से ग्रस्त, कुष्ठ-रोगी (आचा)।

कोडिक } वि [कुष्टिक] कुष्ठ-रोगी, कुष्ठ-कोडिय } ग्रस्त (पएह २, ५ विपा १, ७)।

कोण वि [दे] १ काला, श्याम वर्णवाला (दे २, ४५)। २ पुं. लकुट, लकड़ी, यष्टि (दे २, ४५; निचू १; पात्र)। ३ वीणा वगैरह वजाने की लकड़ी, वीणा-वादन-दण्ड (जीव ३)।

कोण } पुंन [कोण] कोन, अन्न, घर का कोणग } एक भाग (गउड; दे २, ४५; रंभा)।

कोणव पुं [कौणव] राक्षस, पिशाच (पात्र)।

कोणायल पुं [कोणाचल] भगवान् शान्ति-नाथ के प्रथम श्रावक का नाम (विचार ३७८)।

कोणालग पुं [कोनालक] जलचर पक्षि-विशेष (पएह १, १)।

कोणाळी ब्री [दे] गोष्ठी, गोठ (बृह १)।  
 कोणिअ } पुं [कोणिक] राजा श्रेणिक का  
 कोणिम } पुत्र, नृप-विशेष (अंतः; राया १,  
 १; महाः ज्व)।  
 कोणु ब्री [दे] लेखा, लकीर, रेखा (दे २, २६)।  
 कोणोट्टिया ब्री [दे] गुब्जा, गुं 'चणोठी'  
 (अनु० वृ० हारि० पत्र० ७६) देखो,  
 चणोट्टिया।  
 कोणण पुं [दे. कोण] गृह-कोण, घर का  
 एक भाग, कोना (दे २, ४५)।  
 कोतव न [कौतव] मूपक के रोम से निपन्न  
 सूता (राज)।  
 कोतुहल देखो कुऊहल (काल)।  
 कोत्तलंका ब्री [दे] दाह परोसने का भाण्ड,  
 पात्र-विशेष (२, १४)।  
 कोत्तिअ वि [कौतिक] कौतूकी, कुवूहली  
 (गा ६७२)।  
 कोत्तिअ पुं [कोत्रिक] ? भूमि-शयन करने-  
 वाला वानप्रस्थ (श्रौप)। २ न. एक प्रकार  
 का मधु (ठा २)।  
 कोत्थ देखो कोच्छ = कौक्ष।  
 कोत्थर न [दे] ? विज्ञान (दे २, १३)। २  
 कोटर, गह्वर (नुपा २४७; निचू १५)।  
 कोत्थल पुं [दे] ? कुशल, कोष्ठ (दे २,  
 ४८)। २ कोयली, बैला (स १६२)।  
 कोत्तरी ब्री [कारि] भौरी, कीट-विशेष  
 (बृह १)।  
 कोत्थुभ } पुं [कौस्तुभ] वासुदेव के वनः  
 कोत्थुह } त्वल की मणि (ती १०; प्रायः  
 कोत्थुभ } महाः गा १५१; परह १, ४)।  
 कोदंड पुं [कोदण्ड] वनस्प, वन, कार्युक,  
 चाप (अंत १६)।  
 कोदंडिम } देखो कु-दंडिम (जं ३; कप्प)।  
 कोदंडिय }  
 कोदूसग देखो कोडूसग (भग ६, ७)।  
 कोदय गेखो कुदय (मवि)।  
 कोदविया ब्री [दे] मातृवाहा, क्षुद्र कीट-  
 विशेष (सुख १८, ३५)।  
 कोदाल देखो कुदाल (परह १, १—पत्र  
 २३)।  
 कोदालिया ब्री [कुदालिका] छोटा कुदार,  
 कुदारी (विपा १, ३)।

कोध पुं [कोध] इस नाम का एक राजा,  
 जिसने वाशरथि भरत के साथ जैन दीक्षा ली  
 थी (पउम ८५, ४)।  
 कोप्प देखो कुप्प = कुप्। कोप्पइ (नाट)।  
 कोप्प पुं [दे] अपराध, गुनाह (दे २, ४५)।  
 कोप्प वि [कोप्य] द्वेष्य, अप्रीतिकर  
 'अकोप्यजंजुगला' (परह १, ३)।  
 कोप्पर पुं [कूर्पर] ? हाथ का मध्य भाग  
 (श्रौष २६६ भा; कुमा; हे १, १२४)। २  
 नदी का किनारा, तट, तीर (श्रौष ३०)।  
 कोवेरी ब्री [कौवेरी] विद्या-विशेष (पउम  
 ७, १४२)।  
 कोभग } पुं [कोभक] पक्षि-विशेष (अंतः  
 कोभगक } श्रौप)।  
 कोमल वि [कोमल] मृदु, चुकुमार (जी १०;  
 पायः; कप्प)।  
 कोमार वि [कौमार] ? कुमार से संबन्ध  
 रखनेवाला, कुमार-संबन्धी (विपा १, ७१)।  
 २ कुमारी-संबन्धी (पाय)। ३ कुमारी में  
 उत्पन्न (दे १, ८१)। ब्री. °रिया, °री  
 (भग १५)। °भिच्च न [°भृत्य] वैद्यक  
 शास्त्र-विशेष, जिसमें बालकों के स्तन-पान-  
 संबन्धी वर्णन है (विपा १, ७—पत्र ७५)।  
 कोमारी ब्री [कौमारी] विद्या-विशेष (पउम  
 ७, १३७)।  
 कोमुइया ब्री [कौमुदिका] श्रीकृष्ण वासुदेव  
 की एक भेरी, जो उत्सव की सूचना के समय  
 बजाई जाती थी (विसे १४७६)।  
 कोमुई ब्री [दे] पूर्णिमा, कोई भी पूर्णिमा  
 (दे २, ४८)।  
 कोमुई ब्री [कौमुदी] ? शब्द ऋतु की  
 पूर्णिमा (दे २, ४८)। २ चन्द्रिका, चांदनी  
 (श्रौप; वम्म ११ टी)। ३ इस नाम की एक  
 नगरी (पउम ३६, १००)। ४ कार्तिक की  
 पूर्णिमा (राय)। °नाह पुं [°नाथ] चन्द्रमा,  
 चांद (वम्म ११ टी)। °महूसव पुं [°महो-  
 त्सव] उत्सव-विशेष (पि ३६६)।  
 कोमुदिया देखो कोमुइया (राया १, ५—  
 पत्र १००)।  
 कोमुदी देखो कोमुई = कौमुदी (राया १,  
 १२)।  
 कोयव वि [कौतव] चूहे के रोमों से बना  
 हुआ (वन्न) (अणु ३४)।

कोयव वि [कौयव] 'कोयव' देश में निपन्न  
 (आचा २, ५, १, ५)। देखो कोयवग।  
 कोयवग } पुं [दे] छई से नरे हुए कपड़े  
 कोयवय } का बना हुआ पावरण-विशेष,  
 रजाई (राया १, १७—पत्र २२६)।  
 कोयवी ब्री [दे] छई से भरा हुआ कपड़ा  
 (बृह ३)।  
 कोरंग पुं [कोरङ्ग] पक्षि-विशेष (परह १,  
 १—पत्र ८)।  
 कोरंट } पुं [कोरण्ट, °क] ? वृक्ष-विशेष  
 कोरंटग } (पाय)। २ न. इस नाम का  
 भृगुकच्छ (भडौंच) शहर का एक उपवन  
 (वव १)। ३ कोरएटक वृक्ष का पुष्प (परह  
 १, ४; जं १)।  
 कोरअ (शौ) देखो कउरव (प्राक ८४)।  
 कोरय } पुं [कोरक] फलोत्पादक मुकुल,  
 कोरव } फल की कली (पाय): 'चत्तारि  
 कोरवा पत्तता' (ठा ४, १—पत्र १८५)।  
 कोरव देखो कउरव (सम्मत्त १७६)।  
 कोरविआ ब्री [कौरव्या] देखो कौरव्याया  
 (अणु १३०)।  
 कोरव्व पुं [कौरव्य] ? कुह-वंश में उत्पन्न  
 (सम १५२; ठा ६)। २ कौरव्य-नौवीय।  
 ३ पुं. आठवां चक्रवर्ती राजा ब्रह्मदत्त (जीव  
 ३)।  
 कोरव्याया ब्री [कौरव्याया] इस नाम की  
 पड्डज ग्राम की एक मुच्छंता (ठा ७)।  
 कोरिट } देखो कोरंट (राया १, १—  
 कोरिटय } पत्र १६; कप्प; पउम ४२, ८;  
 कोरेंट } श्रौप; उवा)।  
 कोल पुं [दे] ग्रीवा, नोक, गला (दे २, ४५)।  
 कोल पुं [कोड] ? सूयर, वराह (परह १,  
 १—पत्र ७; स १११)। २ उत्सङ्ग, गोदः  
 'कोलीकय—' (गउड)।  
 कोल पुं [कोल] ? देश-विशेष (पउम ६८,  
 ६६)। २ घुण, काष्ठ-कीट (सम ३६)। ३  
 शूकर, वराह, सूयर (उप ३२० टी; राया  
 १, १; कुमा; पाय)। ४ मूपिक के आकार  
 का एक जन्तु (परह १, १—पत्र ७)। ५  
 अन्न-विशेष (वम्म ५)। ६ मनुष्य की एक  
 नीच जाति (आचू ४)। ७ वदरी-वृक्ष, वेर  
 का गाछ। ८ न. वदरी-फल, वेर (दस ५,  
 १; भग ६, १०)। °पाग न [°पाक] नगर-

विशेष, जहाँ श्रीऋषभदेव भगवान् का मंदिर है, यह नगर दक्षिण में है (ती ४५) । °पाल पुं [°पाल] देव-विशेष, वरुणेंद्र का लोकपाल (ठा ३, १—पत्र १०७) । °सुणय, °सुणह पुं [°सुनक] १ बड़ा शूकर, सूयर की एक जाति, जंगली बराह (आचा ३, १, ५) । २ शिकारी कुत्ता (परण ११) । स्त्री. °गिया (परण ११) । °वास पुं न [°वास] काष्ठ, लकड़ी (सम ३६) ।

कोल वि [कौल] १ शक्ति का उपासक, तान्त्रिक मत का अनुयायी । २ तान्त्रिक मत से संबन्ध रखनेवाला; 'कोलो धम्मो कम्म एो भाइ रम्मो' (कप्पु) । ३ न. बदर-फल-संबन्धी (भग ६, १०) । °चुणन न [°चूर्ण] बेर का चूर्ण, बेर का सत्तू (दस ५, १) । °द्विय न [°स्थिक] बेर की गुठिया या गुठली (भग ६, १०) ।

कोलंव पुं [दे] पिठर, स्थाली (दे २, ४७; पात्र) । २ गूह, घर (दे २, ४७) ।

कोलंव पुं [कोलम्ब] वृक्ष की शाखा का नामा हुआ अग्र भाग (अनु ५) ।

कोलगिणी स्त्री [कोली, कोलकी] कोल-जातीय स्त्री (आचू ४) ।

कोलवरिय वि [कौलगृहिक] कुलगृह-संबन्धी, पितृगृह-संबन्धी, पितृगृह से संबन्ध रखनेवाला (उवा) ।

कोलजा स्त्री [दे] वान्य रखने का एक तरह का गर्त (आचा २, १, ७) ।

कोटर देखो कोटर (गा ५६३ अ) ।

कोलय न [कौलय] ज्योतिष-शास्त्र में प्रसिद्ध एक करण (विते ३३४८) ।

कोलाल वि [कौलाल] १ कुम्भकार-संबन्धी । २ न. मिट्टी का पात्र (उवा) ।

कोलालिय पुं [कौलालिक] मिट्टी का पात्र बेचनेवाला (वृह २) ।

कोलाह पुं [कोलाभ] साँप की एक जाति (परह १) ।

कोलाहल पुं [दे] पक्षी की आवाज, पक्षी का शब्द (दे २, ५०) ।

कोलाहल पुं [कोलाहल] तुमुल, शोरगुल, रौला, हल्ला, बहुत दूर जानेवाला अनेक प्रकार

का अस्फुट शब्द (दे २, ५०; हेका १०५; उत १) ।

कोलाहलिय वि [कोलाहलिक] कोलाहल-वाला, शोरगुलवाला (पउम ११७, १६) ।

कोलिअ पुं [दे] एक अवम-मनुष्य-जाति (सुव २, १५) ।

कोलिअ पुं [दे] कोली, तन्तुवाय, जुलाहा, कपड़ा बुननेवाला (दे २, ६५; एंदि; पव २; उप पृ २१०) । २ जाल का कोड़ा, मकड़ा (दे २, २५; पात्र; था २०; आव ४; वृह १) ।

कोलित्त न [दे] उल्मुक, लूका (दे २, ४६) ।

कोलिन्न न [कौलीन्य] कुलीनता, खानदानी (धर्मवि १४६) ।

कोलीकय वि [कोडीकृत] स्वीकृत, अंगीकृत (गउड) ।

कोलीण न [कौलीन] १ किवदंती, लोक-वार्ता, जन-श्रुति (मा ३७) । २ वि. वंश-परंपरागत, कुलक्रम से आयात । ३ उत्तम कुल में उत्पन्न । ४ तान्त्रिक मत का अनुयायी (नाट—महावी १३३) ।

कोलीर न [दे] लाल रंग का एक पदार्थ, कुशविन्द; 'कोलीररत्तयण्येअ' (दे २, ४६) ।

कोलुण्ण न [कारुण्य] दया, अनुकम्पा, कर्षणा (निचू ११) । °पडिया, °वडिया स्त्री [°प्रतिज्ञा] अनुकम्पा की प्रतिज्ञा (निचू ११) ।

कोलेज्ज पुं [दे] नीचे गोल और ऊपर खाई के आकार का वान्य आदि भरने का कोठा (आचा २, १, ७, १) ।

कोलेय पुं [कौलेयक] श्वान, कुत्ता (सम्मत्त १६०; धर्मवि ५२) ।

कोल पुं न [दे] कोयला, जली हुई लकड़ी का टुकड़ा (निचू १) ।

कोल्लइर न [कोल्लिकिर] नगर-विशेष (पिंड ४२७) ।

कोल्लपाग न [कोल्लपाक] दक्षिण देश का एक नगर, जहाँ श्री ऋषभदेव का मन्दिर है (ती ४५) ।

कोल्लर पुं [दे] पिठर, स्थाली, थाली, यरिया (दे २, ४७) ।

कोल्ला देखो कुल्ला (कुमा) ।

कोल्लाग देखो कुल्लाग (अंत) ।

कोल्लापुर न [कोल्लापुर] दक्षिण देश का एक नगर, महालक्ष्मी का स्थान (ती ३४) ।

कोल्लासुर पुं [कोल्लासुर] इस नाम का एक दैत्य (ती ३४) ।

कोल्लुग [दे] देखो कोल्लुअ (वव १; वृह १) ।

कोल्लाहल न [दे] फल-विशेष, विम्बी-फल (दे २, ३६) ।

कोल्लुअ पुं [दे] १ शृगाल, सियार (दे २, ६५; पात्र; पउम ७, १७; १०५, ४२) ।

२ कोल्लू, चरखी, ऊल से रस निकालने का कल (दे २, ६५; महा) ।

कोव सक [कोपय] १ दूषित करना । २ कुपित करना । कोवेइ (सूयनि १२५), कोवइज्ज (कुप्र ६४) ।

कोव पुं [कोप] क्रोध, गुस्ता (विपा-१, ६; प्रासू १७५) ।

कोवण वि [कोपन] क्रोधी, क्रोध-युक्त (पात्र; सुपा ३८५; सम ३४७; स्वप्न ८२) ।

कोवाय पुं [कोर्पक] अनार्य देश-विशेष (पव २७४) ।

कोवासिअ देखो कोआसिय (पात्र) ।

कोवि वि [कोपिन्] क्रोधी, क्रोध-युक्त (सुपा २८१; था २०) ।

कोविअ वि [कोविद] निपुण, विद्वान्, अभिज्ञ (आचा; सुपा १३०; ३६२) ।

कोविअ वि [कोपित] १ क्रुद्ध किया हुआ । २ दूषित, दोष-युक्त किया हुआ; 'वइरो किर दाहो वायणंति नवि कोवियं वयणं' (उव) ।

कोविआ स्त्री [दे] शृगाली, सियारिन (दे २, ४६) ।

कोविआर पुं [कोविदार] वृक्ष-विशेष (विक्र ३३) ।

कोविणी स्त्री [कोपिनी] कोप-युक्त स्त्री (था १२) ।

कोशण (मा) वि [कटुण्ण] थोड़ा गरम (प्राकृ १०२) ।

कोस पुं [दे] १ कुसुम्भ रंग से रंगा हुआ रक्त वृक्ष । २ समुद्र, जलधि, सागर (दे २, ६५) ।

कोस पुं [कोश] कोस, मार्ग की लम्बाई का परिमाण, दो मील (कप्प; जी ३२) ।

कोस पुं [कोश, प] १ खजाना, भण्डार (साया १, १३१; पउम ५, २४)। २ तलवार की म्यान (सूय १, ६)। ३ कुडमल; 'कमलकोसव' (कुमा)। ४ मुकुल, कली (गडड)। ५ गोल, वृत्ताकार; 'ता मुह-भेलियकरकोसपिहियपसरंतदंतकरपसर' (सुपा २७; गडड)। ६ दिव्य-भेद, तप्त लोहे का स्पर्श वगैरह शपथ; 'एव्य ग्रम्हे कोसविसएहि पच्चाएमो' (स ३२४)। ७ अग्निदान-शास्त्र, शब्दार्थ-निरूपक ग्रन्थ, जैसा प्रस्तुत पुस्तक। ८ पुंन. पानपात्र, चपक (पात्र)। ९ न. नगर विशेष; 'कोस नाम नयर' (स १३३)। १० पाण त्र [पान] सौगंध, शपथ (गा ४४८)। ११ हिंवि पुं [धिप] खजानची, भंडारी (सुपा ७३)। कोसंवि पुं [कोशाम्] फल-वृक्ष-विशेष (परण १—पत्र ३१)। १२ गंडिया व्री [गण्डिका] खड्ग-विशेष, एक प्रकार की तलवार (राज)। कोसंविद्या व्री [कौशाम्बिका] जैनमुनि-गण की एक शाखा (कप्प)। कोसंवी व्री [कौशाम्बी] बत्स देश की मुख्य-नगरी (ठा १०; विपा १, ५)। कोसग पुं [कोशक] साधुओं का एक चर्म-मय उपकरण, चमड़े की एक प्रकार की शैली (धर्म ३)। कोसट्टइरिआ व्री [दे] चरडी, पार्वती, गौरी, शिव-पत्नी (दे २, ३५)। कोसय न [दे. कोशक] लघु शराव, छोटा पान-पात्र (दे २, ४७; पात्र)। कोसल न [कौशल] कुशलता, निपुणता, चतुरी (कुमा)। कोसल न [दे] नौवी, नारा, इजारबन्द (दे २, ३८)। कोसल पुं [कोसल. क] १ देश-विशेष कोसलग (कुमा; महा)। २ एक जैन महर्षि, सुकोसल मुनि (पउम २२, ४४)। ३ कोसल देश का राजा। ४ वि. कोशल देश में उत्पन्न (ठा ५, २)। ५ पुर न [पुर] अयोध्या नगरी (आक १)। कोसला व्री [कोसला] १ नगरी-विशेष,

अयोध्या-नगरी (पउम २०, २६)। २ अयोध्या-प्रान्त, कोसल-देश (भग ७, ६)। कोसल्लिअ वि [कौशलिक] १ कोसल देश में उत्पन्न, कोसल-देश-सम्बन्धी (भग २०, ८)। २ अयोध्या में उत्पन्न, अयोध्या-संबन्धी (जं २)। कोसल्लिअ न [दे. कौशलिक] प्राभृत, भेंट, उपहार (दे २, १२; सरा; सुपा—प्रस्तावना ५)। कोसल्लिआ व्री [दे. कौशलिक] ऊपर देखो (दे २, १२; सुपा—प्रस्तावना ५)। कोसल्ल न [कौशल्य] निपुणता, चतुराई (कुमा; सुपा १६; सुर १०; ८०)। कोसल्ल न [दे] प्राभृत, भेंट, उपहार; 'तं पुरजणकोसल्लं नरवइणा अप्पियं कुमारस्स' (महा)। कोसल्लया व्री [कौशल्य] निपुणता, चतुराई; 'तह मज्झिमीइकोसल्लया य खीएच्चिय इयाण' (सुपा ६०३)। कोसल्ला व्री [कौशल्य] दाशरथि राम की माता (उज पृ ३७४)। कोसल्लिअ न [दे. कौशलिक] भेंट, उपहार (दे २, १२; महा; सुपा ४१३; ५२७; सरा)। कोसा व्री [कोशा] इस नाम की एक प्रसिद्ध वेश्या, जिसके यहाँ जैन महर्षि श्रीस्यूलभद्र मुनि ने निर्विकार भाव से चातुर्मास (चौमासा) किया था (विवे ३३)। कोसिण वि [कोष्ण] थोड़ा गरम (नाट—वेणी)। कोसिय न [कौशिक] १ मनुष्य का गोत्र विशेष (अभि ४१; ठा ३६०)। २ वीसवें नक्षत्र का गोत्र (चंद १०)। ३ पुं. उलुक, धूक, उल्लू (पात्र; सार्व ५६)। ४ साप-विशेष, चण्डकोशिक-नामक टाँप-विष सर्प, जिसकी भगवान् श्रीमहावीर ने प्रबोधित किया था (आवम)। ५ वृक्ष-विशेष। ६ इन्द्र। ७ नकुल। ८ कोशाभ्यक्ष, खजानची ९ प्रीति, अनुराग। १० इस नाम का एक राजा। ११ इस नाम का एक अमुर। १२ सर्प को पकड़नेवाला, संपरा, गाळिक। १३ अस्थिसार, मज्जा। १४ शृंगारस्त (हि १,

१५६)। १५ इस नाम का एक तापस (भवि)। १६ पुं. व्री. कौशिक गोत्र में उत्पन्न, कौशिक-गोत्रीय (ठा ७—पत्र ३६०)। १७ व्री. कोसिई (मा १६)। कोसिया व्री [कोशिका] १ भारतवर्ष की एक नदी (कस)। २ इस नाम की एक विद्या-घर-राज-कन्या (पउम ७, ५४)। ३ चमड़े का जूता; 'कोसियमालाभूत्तियसिरोहरो विगय-वसणो व' (स २२३)। देखो कोसी। कोसियार पुं [कोशिकार] १ कीट-विशेष, रेशम का कीड़ा (परह १, ३)। २ न. रेशमी वस्त्र (ठा ५, ३)। कोसी व्री [कोशी] १ शिम्बी, छीमी, फली (पात्र)। २ तलवार की म्यान (सूय २, १, १६)। कोसी व्री [कोशी] देखो कोसिया (ठा ५, ३—पत्र ३५१)। २ गोलाकार एक वस्तु; 'कंचणकोसीपविदुदंताण' (श्रौप)। कोसुंभ वि [कौसुंभ] कुसुंभ-सम्बन्धी (रंग) (सिरि १०५७)। कोसुम वि [कौसुम] फूल सम्बन्धी, फूल का बना हुआ; 'कोसुमा वाणा' (गडड)। कोसुमह देखो कुसुंभ (संज्ञि ४)। कोसेअ न [कौशेय] १ रेशमी वस्त्र, कोसेज २ रेशमी कपड़ा (दे २, ३३; सम १५३; परह १, ४)। २ तसर का बना हुआ वस्त्र (जीव ३)। कोह पुं [कोथ] गुत्ता, कोप (श्रौष २ मा; ठा ४, १)। मुंड वि [मुण्ड] क्रोध-रहित (ठा ५, ३)। कोह पुं [कोथ] सड़ना, शीरता (भग ३, ६)। कोह पुं [दे. कोथ] कोथली, थैला (विवे २६८८)। कोह वि [कोथवत्] क्रोध-युक्त, कोप-सहित; 'कोहाए माणाए मायाए लोभाए...आसाय-णाए' (पडि)। कोहंगक पुं [कोभङ्गक] पक्षि-विशेष (श्रौप)। कोहंभाण न [कोधध्यान] क्रोध-युक्त चिन्तन (आउ ११)। कोहंड न [कूभाण्ड] १ कुम्भारडी-फल, कोहंडा (वि ७६; ८६; १२७)। २ न.

देव-विमान-विशेष (ती ५६) । ३ पुं. न्यन्तर-  
श्रेणीय देव-जाति-विशेष (पत्र १६४) ।  
कोहंडी स्त्री [कूष्माण्डी] कोहंडे का गाछ  
(हे १, १२४; दे २, ५० टी) ।  
कोहण वि [क्रोधन] १ क्रोधी, गुस्साखोर  
(सम ३७; पउम ३५, ७) । २ पुं. इस नाम  
का रावण का एक सुमट (पउम ५६, ३२) ।  
कोहल देखो कुरुहल (हे १, १७१) ।  
कोहलिअ वि [कुतूहलिन] कुतूहली,  
कुतूहल-प्रेमी । स्त्री. आ (गा ७६८) ।  
कोहलिआ स्त्री [कूष्माण्डिका] कोहंडा का  
गाछ;  
‘जह लंघेसि परवई निययवई  
भरसहंपि मोत्तूणं ।

तह मएणे कोहलिए, अज्जं  
कल्लंपि फुट्टिहिसि (गा ७६८) ।  
कोहली देखो कोहंडी (हे २, ७३; दे २,  
५० टी) ।  
कोहल देखो कोहल (पड) ।  
कोहली स्त्री [दे] तापिका, तवा, पचन-पात्र-  
विशेष (दे २, ४६) ।  
कोहली देखो कोहंडी (पड) ।  
कोहि } वि [क्रोधिन] क्रोधी, क्रोधी-स्वभाव का  
कोहिल } गुस्साखोर (कम्म ४; १४०; बृह २) ।  
कोरव } देखो कजरव (हे १, १, चंड) ।  
कोलव }  
किसिय देखो किसिय = कृपित (उप  
७२८ टी) ।

ककूर देखो कूर = कूर । (वा २६) ।  
कैर देखो कैर (हे २, ६६) ।  
कखंड देखो खंड (गउड) ।  
कखंभ देखो खंभ (से ३, ५६) ।  
कखंम देखो खम (प्रासू २७) ।  
कखलण देखो खलण (गउड) ।  
कखिंसा देखो खिसा (सुपा ५१०) ।  
कखु देखो खु (कप्पु; अमि ३७; चाह १४) ।  
कखुत्त देखो खुत्त (गउड) ।  
कखेडु देखो खेडु (सुपा ५५२) ।  
कखेव देखो खेव; ‘वारकखेवं व खए’ (उप  
७२८ टी) ।  
कखोडी देखो खोडी (परह १, ३) ।

॥ इय सिरिपाइअसदमहणवो कयाराइसदसंकलणो  
दसमो तरंगो समत्तो ॥

## ख

ख पुं [ख] १ व्यंजन-वर्ण विशेष, इसका  
स्थान कएठ है (प्राभा; प्राप) । २ न. आकाश,  
गगन; ‘गज्जते खे मेहा’ (हे १, १८७; कुमा;  
दे ६, १२१) । ३ इन्द्रिय (विसे ३४४३) ।  
ख पुं [ग] १ पत्नी, खग (प्राग; दे २,  
५०) । २ मनुष्य की एक जाति, जो विद्या  
के बल से आकाश में गमन करती है, विद्याधर-  
लोक (आरा ५६) । देखो खय = खग ।  
खइ स्त्री [गति] १ आकाश-गति । २ कर्म-  
विशेष, जो आकाश-गति का कारण है (कम्म  
२, ३; नव ११) । गामिणी स्त्री [गामिनी]  
विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से आकाश में  
गमन किया जा सकता है (पउम ७; १४५) ।  
खउफ न [खुफ] आकाश-कुसुम, असंभावित  
वस्तु (कुमा) ।  
खअ } सक [खव] संपत्ति-युक्त करना ।  
खउर } खअइ; खउरइ (प्राकू ७३) ।  
खइ वि [खयिन] १ क्षयवाला, नाशवाला ।

२ क्षय रोगवाला, क्षय-रोगी (सुपा २३३;  
५७६) ।  
खइअ वि [क्षपित] नाशित, जन्मलित (श्रीप;  
भवि) ।  
खइअ वि [खचित] १ व्याप्त, जटित । २  
मण्डित, विभूषित (हे १, १६३; श्रीप; स  
११४) ।  
खइअ वि [खादित] १ खाया हुआ, भुक्त,  
ग्रस्त (प्राग; स २५०; उप पृ ४६) । २  
आक्रान्त; ‘तह य होंति उ कसाया । खइओ  
जेहि मगुस्सो कजाकजाई न मुणेइ’ (स  
११४) । ३ न. भोजन, भक्षण; ‘खइएणं व  
पीएणं व न य एसो ताइओ हवइ अप्पा’  
(पञ्च ६२; ठा ४, ४—पत्र २७६) ।  
खइअ वि [क्षयित] क्षय-प्राप्त, क्षीण; ‘किमि-  
कायखइयदेहो’ (सुर १६, १६१) ।  
खइअ पुं [दे] हेवाक, स्वभाव (ठा ४, ४—  
पत्र २७६) ।

खइअ } पुं [चायिक] १ क्षय, विनाश,  
खइग } उन्मूलन; ‘से किं तं खइए ? खइए  
अट्टएहं कम्मपयडीएणं खइएणं’ (अणु) । २  
वि. क्षय से उत्पन्न, क्षय-संबन्धी, क्षय से  
संबन्ध रखनेवाला । ३ कर्म-नाश से उत्पन्न;  
‘कम्मक्खयसहावो खइओ’ (विसे ३४६५; कम्म  
१, १५; ३, १६; ४, २२; सम्य २३; श्रीप) ।  
खइत्त न [खेत्र] खेतों का समूह, अनेक खेत  
(पि ६१) ।  
खइया स्त्री [खदिका] खाद्य-विशेष, सेका हुआ  
श्रीहि—घान, लावा; ‘दहिययपायसखइया-  
निओएणं’ (भवि) ।  
खइर पुं [खदिर] वृक्ष-विशेष, खैर का गाछ  
(आचा; कुमा) ।  
खइर वि [खादिर] खदिर-वृक्ष-संबन्धी (हे १,  
६७; सुपा १५१) ।  
खइव [दे] देखो खइअ (ठा ४, ४—पत्र  
१७६ टी) ।

खंड पुं [खण्ड] स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैना-  
चार्य (प्रायम; आन्ध्र) ।

खंड ग्रक [क्षुम्] ? क्षुब्ध होना, डर से  
विह्वल होना । २ सक, कलुपित करना ।  
खंडर (हे ४, १५४; कुमा); 'खंडरति  
विडगहण' (स ५, ३) ।

खंडर वि [दे] कलुपित, 'दरददुविवरणविदु-  
मरप्रवडर' (स ५, ४७; स ५७८) ।

खंडर न [शौर] क्षौर-कर्म, हजामत (हेका  
१८६) ।

खंडर पुंन [खण्डर] खैर वगैरह का चिकना  
रस, गोंद (वृह ३; निचू १६) । °कठिणय  
न [°कठिनक] तापसों का एक प्रकार का  
पात्र (विसे १४६५) ।

खंडरिअ वि [क्षुब्ध] कलुपित (पाथ; वृह  
३) ।

खंडरिअ वि [क्षौरित] मुण्डित, बुद्धित, केश-  
रहित किया हुआ (स १०, ४३) ।

खंडरिअ वि [खण्डरित] खण्डित, चिपकाया  
हुआ (निचू ५) ।

खंडरीकय वि [खण्डरीकृत] गोंद वगैरह की  
तरह चिकना किया हुआ;

'कलुसीकयो य किट्टीकयो य  
खंडरीकयो य मलिणियो ।  
कम्मदि एस जीवो, नाज्जणवि  
मुक्कई जेण' (उव) ।

खण्डोवसम पुं [क्षयोपशम] कुछ भाग का  
विनाश और कुछ का दवना (भग) ।

खण्डोवसमिय वि [क्षयोपशमिक] ? क्षयो-  
पशम से उत्पन्न, क्षयोपशम-संबन्धी (सम  
१४५; ठा २, १; भग) । २ पुंन, क्षयोपशम  
(भग; विसे २१७५) ।

खण्डर पुं [दे] पलाश-वृक्ष (ती ५३) ।

खण्डार पुं [खण्डार] राजा खण्डार, विक्रम की  
बारहवीं शताब्दी का सौराष्ट्र देश का एक  
भूपति, जिसको गुजरात के राजा सिद्धराज  
ने मारा था (ती ५) । °गण्ड पुं [°गण्ड]  
नगर-विशेष, सौराष्ट्र का एक नगर, जो आज-  
कल 'कूनागढ़' के नाम से प्रसिद्ध है (जी २) ।

खण्ड सक [कृप्] ? खण्डना । २ वश में  
करना । खण्ड (भवि); 'ता गण्ड, तुरिय-

तुरियं तुरयं मा खण्डं पुंच मुक्कयं' (मुपा  
१६८) ।

खण्डिय वि [कृत्] ? खण्डना हुआ (स ५७४) ।  
२ वश में किया हुआ (भवि) ।

खण्ड ग्रक [खण्ड] लंगड़ा होना (कप्पु) ।

खण्ड वि [खण्ड] लंगड़ा, पंगु, लूना (मुपा  
२७६) ।

खण्ड न [खण्ड] गाड़ी में लोहे के डंडे के पास  
बांधा जाता सण आदि का गोल कपड़ा—

जो तेल आदि से भोजाया हुआ रहता है, वि-  
डुआ; 'खण्डजणनयणनिना' (उत्त ३४, ४) ।

खण्डण पुं [खण्डण] राहु का कृष्ण पुद्गल-  
विशेष (मुज्ज २०) ।

खण्डण पुं [खण्डण] ? पश्चि-विशेष, खण्डरोट  
(दे २, ७०) । २ वृक्ष-विशेष; 'ताडवडखण्ड-  
जणमुक्कपरगहीरदुक्कसंचारे' (स २५६) ।

खण्डण पुं [दे] ? कदम, कीचड़ (दे २, ६६;  
पाथ) । २ कजल, काजल, मयो (ठा ४, २) ।  
३ गाड़ी के पहिए के भीतर का काला कीच  
(परण १७—पर ५२५) ।

खण्डर पुं [दे] सूखा हुआ पेट (दे २, ६८) ।

खण्डा व्री [खण्डा] छन्द-विशेष (पिग) ।

खण्डिअ वि [खण्डित] जो लंगड़ा हुआ हो,  
पंगुभूत (कप्पु) ।

खण्ड सक [खण्डय्] तोड़ना, टुकड़ा करना,  
विच्छेद करना । खण्डइ (हे ४, ३६७) । कवक  
खण्डिज्जंत (स १३, ३२; मुपा १३४) । हेक.  
खण्डित्तए (उवा) । कृ. खण्डियव्य (उप  
६२८ टी) ।

खण्ड पुं [खण्ड] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६) ।  
°कण्ड न [°काण्ड] खोटा काव्यग्रन्थ  
(सम्मत ८४) ।

खण्ड (अप) देखो खण्ड; 'सुंडीरहं खण्ड वसइ  
लच्छी' (भवि) ।

खण्ड पुंन [खण्ड] ? टुकड़ा, शंरा, हिस्सा  
(हे २, ६७; कुमा) । २ चीनी, मिट्टी (उर  
६, ८) । ३ पृथ्वी का एक हिस्सा;  
'खण्डं—' (सण) । °खण्ड पुं [°खण्ड]  
भिक्षुक का जल-पात्र (शाया १, १६) ।

°पवाया व्री [°प्रपाता] वैताल्य पर्वत की  
एक गुफा (ठा २, ३) । °भेय पुं [°भेद]  
विच्छेद-विशेष, पदार्थ का एक तरह का

पुष्पकरण, पटके हुए घड़े की तरह पुष्पभाज  
(ना ५, ४) । °महप पुंन [°महक] निम्ना-  
भाज (शाया १, १६) । °सो प्र [°सोस्]  
टुकड़ा-टुकड़ा, खण्ड-खण्ड (पि ५, १६) ।  
°भेय देखो °भेय (ठा १०) ।

खण्ड न [दे] ? मुण्ड, शिर, मस्तक । २  
दाह का वस्तुन, मद्य-पात्र (दे २, ६८) ।

खण्डई व्री [दे] शसती, कुलटा (दे ३, ६७) ।

खण्डण पुंन [खण्डण] चीया हिस्सा (पव  
१४३) ।

खण्डण न [खण्डण] शिखर-विशेष (ठा ६;  
इक) ।

खण्डण न [खण्डण] ? विच्छेद, भङ्गन, नाश  
(शाया १, ८) । २ कण्डन, धान्य वगैरह का  
छिनका भ्रमण करना; 'खण्डणदलणाई गिह-  
कम्म' (मुपा १४) । ३ वि. नाश करनेवाला,  
नाशक (मुपा ४३२) ।

खण्डणा व्री [खण्डणा] विच्छेद, विनाश  
(कप्पु; निचू १) ।

खण्डपट्ट पुं [खण्डपट्ट] ? धूतकार, जूयारो  
(विपा १, ३) । २ धूत, ठग । ३ श्रम्याव से  
व्यवहार करनेवाला (विपा १, ३) ।

खण्डरक्य पुं [खण्डरक्त] ? दारुड्यायिक,  
कोतवाल (शाया १, १, परइ १, ३; श्रोप) ।  
२ शुल्कपाल, चुंगी वसूल करनेवाला (शाया  
१, १; विसे २३६०; श्रोप) ।

खण्डय न [खण्डय] इन्द्र का वन-विशेष,  
जिसको शत्रुंन ने जलाया था (नाट—वेणो  
११४) ।

खण्डा व्री [खण्ड] मिट्टी, चीनी, शकर, खंड  
(श्रोप ३७३) ।

खण्डा व्री [खण्डा] इस नाम की एक विद्याधर-  
कन्या (महा) ।

खण्डाखण्डि अ [खण्डाखण्डि] टुकड़ा-टुकड़ा;  
खण्डखण्ड (उवा; शाया १, १६) । °डीकय  
वि [कृत] टुकड़ा-टुकड़ा किया हुआ (सु.  
१६, ५६) ।

खण्डामणिकंचण न [खण्डामणिकाञ्चन]  
इस नाम का एक विद्याधर-नगर (इक) ।

खण्डावत्त न [खण्डावत्त] इस नाम का एक  
विद्याधरनगर (इक) ।

खंडाहंड वि [खण्डखण्ड] टुकड़ा-टुकड़ा किया हुआ (सुपा ३८५) ।  
 खंडिअ पुं [खण्डिक] छात्र, विद्यार्थी (श्रौप) ।  
 खंडिअ वि [खण्डित] छिन्न, विच्छिन्न (हे १, ५३; महा) ।  
 खंडिअ पुं [दे] १ मागव, भाट, विहद-भाठक ।  
 २ वि. अनिवार्य, निवारण करने को अशक्य (दे २, ७८) ।  
 खंडिआ ली [खण्डिका] खण्ड, टुकड़ा (अभि ६२) ।  
 खंडिआ ली [दे] नाप-विशेष, बीस मन की नाप (सं २४) ।  
 खंडी ली [दे] १ अपहार, छोटा गुप्त द्वार (शाया १, १८—पत्र २३६) । २ किले का छिद्र (शाया १, २—पत्र ७६) ।  
 खंडुं (अप) देखो खग्ग । गुजराती में 'खंडु' कहते हैं (प्राक् १२१) ।  
 खंडुअ न [दे] बाहु-बलय, हाथ का आभूषण-विशेष, बाहुबंद (मुच्छ १८१) ।  
 खंडुय देखो खंडग (पत्र १४३) ।  
 खंतं पुं [दे] पिता, वाम (पिंड ४३२; सुख २, ३; ५; ८) ।  
 खंत देखो खा ।  
 खंत वि [क्षान्त] क्षमा-शील, क्षमा-युक्त (उप ३२० टी; कप्पु; भवि) ।  
 खंतव्य वि [क्षान्तव्य] क्षमा-योग्य, माफ करने लायक (विक्र ३८; भवि) ।  
 खंति ली [क्षान्ति] क्षमा, क्रोध का अभाव (कप्प; महा; प्रासू ४८) ।  
 खंति देखो खा ।  
 खंतिथा } ली [दे] माता, जननी (पिंड  
 खंती } ४३०; ४३१) ।  
 खंद पुं [स्कन्द] १ कात्तिकेय, महादेव का एक पुत्र (हे २, ५, प्राप्र; शाया १, १—पत्र ३६) । २ राम का स्कन्द नाम का एक सुभट (पउम ६७, ११) । ३ कुमार पुं [कुमार] एक जैन मुनि (उव) । ४ गृह पुं [ग्रह] १ स्कन्दकृत उपद्रव, स्कन्दवेश (जं २) । २ ज्वर-विशेष (भाग ३, ६) । ३ मह पुं [मह] स्कन्द का उत्सव (शाया १, १) । ४ सिरी

ली [श्री] एक चोर-सेनापति की भार्या का नाम (विपा १, ३) ।  
 खंदग पुं [स्कन्दक] १-२ ऊपर देखो । ३ खंदय एक जैन मुनि (उव; भग; अंत; सुपा ४०८) । ४ एक परिव्राजक, जिसने भगवान् महावीर के पास पीछे से जैन दीक्षा ली थी (पुष्प ८४) ।  
 खंदरुद न [स्कन्दरुद्र] शास्त्र-विशेष (धर्मसं ६३५) ।  
 खंदिल पुं [स्कन्दिल] एक प्रख्यात जैनाचार्य, जिसने मथुरा में जैनागमों को लिपि-बद्ध किया (गच्छ १) ।  
 खंध पुं [स्कन्ध] भित्ति, भीत, दीवार (आचा २, १, ७, १) ।  
 खंध पुं [स्कन्ध] १ पुद्गल-प्रचय, पुद्गलों का पिरण्ड (कम्म ४, ६६) । २ समूह, निकर (विसे ६००) । ३ कन्वा, कांध (कुमा) । ४ पेड़ का बड़, जहाँ से शाखा निकलती है (कुमा) । ५ छन्द-विशेष (पिग) । ६ करणी ली [करणी] साध्वियों को पहनने का उपकरण-विशेष (श्रौष ६७७) । ७ मंत वि [मंत] स्कन्धवाला (शाया १, १) । ८ वीज पुं [वीज] स्कन्ध ही जिसका वीज होता है ऐसा कदली वगैरह का गाछ (ठा ५, २) । ९ सालि पुं [शालिन्] व्यन्तर देवों की एक जाति (राज) ।  
 खंधग्गि पुं [दे. स्कन्धाग्नि] स्थूल काष्ठों की आग (दे २, ७०; पाय) ।  
 खंधमंस पुं [दे] हाथ, भुजा, बाहु (दे २, ७१) ।  
 खंधमंसी ली [दे] स्कन्ध-यष्टि, हाथ (पड) ।  
 खंधय देखो खंध (पिग) ।  
 खंधयट्टि ली [दे. स्कन्धयष्टि] हाथ, भुजा, (दे २, ७१) ।  
 खंधर पुंजी [कंधर] ग्रीवा, गला, गरदन (सण) । ली. रा (महा) ।  
 खंधलट्टि ली [दे. स्कन्धयष्टि] स्कन्ध-यष्टि, हाथ, भुजा (पड) ।  
 खंधवार देखो खंधावार (महा) ।  
 खंधाआर देखो खंधावार (प्राक् ३०) ।  
 खंधार पुं. व. [स्कन्धार] देश-विशेष (पउम ६८, ६६) ।

खंधार देखो खंधावार (पउम ६६, २८; महा; विसे २४४१) ।  
 खंधाल वि [स्कन्धवत्] स्कन्धवाला (सुपा १२६) ।  
 खंधावार पुं [स्कन्धावार] छावनी, सैन्य का पड़ाव, शिविर (शाया १, ८; स ६०३, महा) ।  
 खंधि वि [स्कन्धिन्] स्कन्धवाला (श्रौप) ।  
 खंधिह देखो खंधि (स ६६७) ।  
 खंधी ली. देखो खंध (श्रौप) ।  
 खंधीधार पुं [दे] बहुत गरम पानी की धारा (दे २, ७२) ।  
 खंप सक [सिच्] सिञ्चना, छिड़कना । खंपइ (भवि) ।  
 खंपणय न [दे] वज्र, कपड़ा; 'बहुसेयसिन्न-मलमदलखंपणयचिकणसरीरो' (सुपा ११) ।  
 खंभ पुं [स्तम्भ] खंभा. यंभा (हे १, १८७; २, ४; ६; भग; महा) ।  
 खंभ सक [स्कम्] झुक्च होना, विचलित होना । खंभेजा, खंभाएजा (ठा ५, १—पत्र २६२) ।  
 खंभतित्थ न [स्तम्भतीर्थ] एक जैन तीर्थ, गुजरात का प्राचीन 'खंभणा' गाँव (कुप्र २१) ।  
 खंभह्दिअ वि [स्तम्भि] खंभे से बाँधा हुआ (से ६, ८५) ।  
 खंभाइत्त न [स्तम्भादित्थ] गूर्जर देश का एक प्राचीन नगर, जो आजकल 'खंभात' नाम से प्रसिद्ध है (ती २३) ।  
 खंभालण न [स्तम्भालगण] खंभे से बाँधना (पणह १, ३) ।  
 खक्खरग पुंन [दे] सूझी रोटी (धर्म २) ।  
 खग्ग पुं [खड्ग] १ पशु विशेष, गेंडा (उप १४८; पणह १, १) । २ पुंन. तलवार, असि (हे १, ३४; स ५३१) । ३ वेणुआ ली [वेणु] छुरी, चाकू (दंस) । ४ पुरा ली [पुरा] विदेह-वर्ष की स्वनाम-प्रसिद्ध नगरी (ठा २, ३) । ५ पुरी ली [पुरी] पूर्वोक्त ही अर्थ (इक) ।  
 खग्गाखग्गि न [खड्गाखड्दिग्ग] तलवार की लड़ाई (सिरि १०३२) ।



खगि पुं [खड्गि] जन्तु-विशेष, गेंडा (कुमा) ।  
 खगिअ पुं [दे] ग्रामिण, गाँव का मुखिया (दे २, ६६) ।  
 खग्गी स्त्री [खङ्गी] विदेह वर्ष की नगरी-विशेष (भा २, ३) ।  
 खग्गूड वि [दे] १ शठ-प्राय, घूर्त्त-सदृश (श्रोष ३६ भा) । २ वर्मरहित, नास्तिक-प्राय (श्रोष ३५ भा) । ३ निद्रालु । ४ रस-लम्पट (बृह १) ।  
 खच सक [खच्] १ पावन करना, पवित्र करना । २ कसकर बाँधना । खचइ (हे ४, ८६) ।  
 खचिअ देखो खइअ = खचित (कुमा) । ३ पित्ररित (कम्प) ।  
 खचल पुं [दे] ऋक्ष. मल्लूक, नाजू (दे २, ६६) ।  
 खचोल पुं [दे] ध्यात्र, शेर (दे २, ६६) ।  
 खज पुं [खज] वृक्ष-विशेष (स २५६) ।  
 खज वि [खाज] १ खाने योग्य वस्तु (परह १, २) । २ न. खाय-विशेष (भवि) ।  
 खज वि [क्षय्य] जिसका क्षय किया जा सके वह (पड) ।  
 खजंत देखो खा ।  
 खजग देखो खज = खाद्य (भग १५) ।  
 खजमाण देखो खा ।  
 खजय देखो खज = खाद्य (पठम ६६, १६) ।  
 खज्जअ वि [दे] १ जीर्ण, सड़ा हुआ । २ उपालब्ध, जिसको उलाहना दिया गया हो वह (दे २, ७८) ।  
 खज्जिर (अप) वि [खाद्यमान] जो खाया गया हो वह (सण) ।  
 खजू स्त्री [खजू] खुजली, पामा (राज) ।  
 खजूर पुं [खजूर] १ खपूर का पेड़ (कुमा; उक्त ३४) । २ न. खपूर का फल (पठम ४१, २; सुपा ५७) ।  
 खजूरी स्त्री [खजूरी] खपूर का गाछ (पाय; परण १) ।  
 खज्जोअ पुं [दे] नक्षत्र (दे २, ६६) ।  
 खज्जोअ पुं [खद्योत] कीट-विशेष, जुगनु, (सुपा ४७; राया १, ८) ।

खट्ट न [दे] १ तीमन, कड़ी, फोर (दे २, ६७) । २ वि. खट्टा, अम्ल (परण १—पत्र २७; जीव १) । ३ मह पुं [मेव] सट्टे जल की बर्षा (भग ७, ६) ।  
 खट्टंग न [दे] छाया, आतप का अभाव (दे २, ६८) ।  
 खट्टंग न [खट्टाङ्ग] १ शिव का एक आयुध (कुमा) । २ चारपाई का पाया या पाटी । ३ प्रायश्चित्तात्मक भिक्षा मार्गने का एक पात्र । ४ तांत्रिक मुद्रा-विशेष; 'हृत्वद्वियं कवालं, न मुयइ नृगं खण्णि खट्टंगं। सा तुह विरहे बालय, बाला कान्नालिणो जाया' (वजा ८८) ।  
 खट्टकखड पुं [खट्टाङ्क] रत्नप्रभा नामक पृथिवी का एक नकरकावात्त, 'कालं काङ्कणं खण्णनाए पुडवीए खट्टकखडानिहाए नरेए पलिओवमाज्ज चव नारणे उववतोत्ति' (स ८६) ।  
 खट्टा स्त्री [खट्टा] खाट, पलंग, चारपाई (सुपा ३३७; हे १, १६५) । मह पुं [मह] बीमारी की प्रवृत्तता से जो खाट से उठ न सकता हो वह (बृह १) ।  
 खट्टिअ ) [दे. खट्टिक] खट्टीक, सौनिक, खट्टिक ) कसाई (गा ६८२; सूय २, २; दे २, ७०) ।  
 खड पुं [दे] एक म्लेच्छ-जाति (मृच्छ १५२) ।  
 खड न [दे] तृण, घास (दे २, ६७; कुमा) ।  
 खडइअ वि [दे] संकुचित, संकोच-प्राप्त (दे २, ७२) ।  
 खडंग न [पडङ्ग] छः अंग, वेद के वे छः अंग—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, निश्क । १ वि वि [चित्] छहों अंगों का जानकार (पि २६५) ।  
 खडकय पुंन [खट्टकृत] आहट देना, ध्वनि के द्वारा सूचना, सिकड़ी वगैरह की आवाज; 'त्रियडकवाडकडाणं खडकयो निमुण्णिओ ततो' (सुपा ४१४) ।  
 खडकार पुं [खट्टकार] ऊपर देखो (सुर ११, ११२; विक्र ६०) ।  
 खडकिआ ) स्त्री [दे] खिड़की, छोटा द्वार खडकी ) (कम्प; महा; दे २, ७१) ।  
 खडकिय देखो खडकय (वर्मवि ५६) ।

खडकयड पुं [खट्टकयड] खट्ट-खट्ट आवाज (मोह ८६) ।  
 खडकखर देखो छडकखर (सम्मत् १०३) ।  
 खडखड पुं [खडखड] देतो खाडखड (इक) ।  
 खडखडग वि [दे] छोटा और लम्बा (राज) ।  
 खडट्टोखिल पुं [दे] एक म्लेच्छ-जाति (मृच्छ १५२) ।  
 खडणा स्त्री [दे] गीया, नौ (गा ६३२ अ) ।  
 खडइड पुं [खट्टखट्ट] साकल वगैरह की आवाज, खट्टकार (सुपा ५०२) ।  
 खडइडी स्त्री [दे] जन्तु-विशेष, गिलहरी, गिल्ली (दे २, ७२) ।  
 खडिअ देखो खट्टिअ (गा ६८२ अ) ।  
 खडिअ देखो खडिअ (गा १६२ अ) ।  
 खडिअ पुं [दे] दवात, स्याही का पात्र (वर्मवि ५७) ।  
 खडिआ स्त्री [खट्टिका] खड़ी, लड़कों को लिखने की खड़ी या खडिया (कम्प) ।  
 खडी स्त्री [खटी] ऊपर देखो (प्राह) ।  
 खडुआ स्त्री [दे] मौक्तिक, मोती (दे २, ६८) ।  
 खडुक ग्रक [आविस् + भू] प्रकट होना, उत्पन्न होना । खडुकि (वजा ४६) ।  
 खडुक ) पुंकी [दे] मुंड सिर पर उंगली खडुग ) का आघात (वप १) ।  
 खडु सक [खट्ट] मर्दन करना । खडुइ (हे ४, १२६) ।  
 खडु ) न [दे] १ शम्भु, दाड़ी-भूँछ (दे २, खडुग ) ६६; पात्र) । २ बड़ा, नहान (वित्त २५७६ टी) । ३ गर्त के आकारवाला (उवा) ।  
 खडुा स्त्री [दे] १ खानि, आकर (दे २, ६६) । २ पर्वत का खात, पर्वत का गर्त (दे २, ६६) । ३ गर्त, गड्ढा, खड्डा (सुर २, १०३; स १५२; सुपा १५; आ १६; महा; उक्त २; पंचा ७) ।  
 खडुिअ वि [मृदित] जिसका मर्दन किया गया हो वह (कुमा) ।  
 खडु डुया स्त्री [दे] ठोकर, आघात; 'खडु डुया ने चवेवा मे' (उक्त १, ३८) ।  
 खडुोलय पुं [दे] लड़ा, गर्त, गड्ढा (स ३६३) ।  
 खण सक [खन्] खोदना । खणइ (महा) । कर्म. खम्मइ, खण्णज्जइ (हे ४, २४४) । वक्र. खणमाण (सुर २, १०३) । संकु-

खणेतु (आचा)। कवक. खन्नमाण (पि. ५४०)।

खण पुं [क्षण] काल-विशेष, बहुत थोड़ा समय (ठा २; ४; हे २; २०; गउडः प्रासू १३४)। जोड़ वि [योगिन] क्षणमात्र रहनेवाला (सूत्र १, १; १)। भंगुर वि [भङ्गुर] क्षण-विनश्वर, क्षणिक (पउम ८, १०५; गा ४२३; विवे ११४)। यात्री [दा] रात्रि; रात (उप ७६८ टी)।

खणखण } अक [खणखणाय] क्षण-  
खणखणखण } क्षण आवाज करना। क्षण-  
क्षणति (पउम ३६, ५३)। वक. खण-  
क्खणंत (स ३८४)।

खणग वि [खनक] खोदनेवाला (गाया १, १८)।

खणण न [खनन] खोदना (पउम ८६, ६०; उप पृ २२१)।

खणय देखो खग = क्षण (आचा; उवा)।

खणय वि [खनक] खोदनेवाला (दे १, ८५)।

खणाविच वि [खानित] बुदाया हुआ (सुपा ४५४; महा)।

खणि ली [खनि] खान, आकर (सुपा ३५०)।

खणिक } देखो खणिय = क्षणिक; 'सदाश्या  
खणिक } कामगुणा क्षणिक' (बु १५२;  
धर्म २२८)।

खणित न [खनित्र] खोदने का अस्त्र, खन्ती (दे ४, ४)।

खणिय वि [क्षणिक] १. क्षण-विनश्वर, क्षण-भंगुर (विते १६७२)। २ वि. फुरसत-वाला, काम-धंवा से रहित; 'नो तुम्हे विव अन्हें क्षणिया इय वुत्तु नीहरियो' (धम्म ८ टी)। चाड़ वि [वादिन्] सर्व पदार्थ को क्षण-विनश्वर माननेवाला, बौद्धमत का अनुयायी (राज)।

खणिय वि [खनितः] बुदा हुआ (सुपा २५६)।

खणी देखो खणि (पात्र)।

खणुसा ली [दे] मन का दुःख, मानसिक पीड़ा (दे २, ६८)।

खण्ण न [दे] खात, खोदा हुआ (दे २, ६६; बृह ३; वव १)।

खण्ण वि [खन्य] खोदने योग्य (दे २, ३६)।

खण्णु देखो खाणु (दे २, ६६; पड)।

खण्णुअ पुं [दे, स्थाणुक] कोलक, खोंटी, खूटा (दे २, ६८; गा ६४; ४२२ अ)।

खत्त न [दे] १ खात, खोदा हुआ (दे २, ६६; पात्र)। २ शख से तोड़ा हुआ (श्रौष ३४०)। ३ सेव, चोरी करने के लिए दीवाल में किया हुआ छेद (उप पृ ११६; गाया १, १८)। ४ खाद, गोबर (उप ५६७ टी)।

खणग पुं [खनक] सेव लगाकर चोरी करनेवाला (गाया १, १८)। खणण न [खनन] सेव लगाना (गाया १, १८)।

मेह पुं [मेव] करीप के समान रसवाला मेघ (भग ७, ६)।

खत्त पुं [क्षत्र] क्षत्रिय, मनुष्य-जाति-विशेष (सुपा १६७; उत १२)।

खत्त वि [क्षत्र] १ क्षत्रिय-संबन्धी, क्षत्रिय का। २ न. क्षत्रियत्व, क्षत्रियपन; 'अहह अखत्तं करेइ कोइ इमो' (धम्म ८ टी; नाट)।

खत्तय पुं [दे] १ खेत खोदनेवाला। २ सेव लगाकर चोरी करनेवाला। ३ ग्रह-विशेष, राहु (भग १२, ६)।

खत्ति पुं [दे] एक म्लेच्छ-जाति (मृच्छ १५२)।

खत्ति पुं ली [क्षत्रिन्] नीचे देखो, 'खत्तीण सेट्ठे जह दंतवक्के' (सूत्र १, ६, २२)।

खत्तिअ पुं ली [क्षत्रिय] मनुष्य की एक जाति, क्षत्री, राजन्य (पिंग; कुमा; हे २, १८५; प्रासू ८०)। कुंडगाम पुं [कुण्डग्राम] नगर-विशेष, जहाँ श्रीमहावीर देव का जन्म हुआ था (भग ६, ३३)। कुंडपुर न [कुण्डपुर] पूर्वोक्त ही अर्थ (आचा २, १५, ४)। विजा ली [विद्या] धनु-विद्या (सूत्र २, २)।

खत्तिणी } ली [क्षत्रियाणी] क्षत्रिय जाति  
खत्तियाणी } की ली (पिंग; कप्प)।

खद्द न [दे] प्रभूत लाभ (पंचा १७, २१)।

खद्द वि [दे] १ भुक्त, भक्षित (दे २, ६७; सुपा ६१०; उप पृ २५२; सण; भवि)। २. प्रत्रु, बहुत; 'खद्दे भवदुक्खजले तरइ विणा नेय सुयुत्तरि' (सात्रं ११४; दे २, ६७; पव २; बृह ४)। ३ विशाल, बड़ा

(श्रौष ३०७; ठा ३, ४)। ४. अ. शीघ्र, जल्दी (आचा २, १, ६)। दाणिअ वि. [दानिक] समृद्ध, ऋद्धि-संपन्न (श्रौष ८६)।

खन्न [दे] देखो खण्ण (पात्र)।

खन्नमाण देखो खण = खन्।

खन्नुअ [दे] देखो खण्णुअ (पात्र)।

खपुसा ली [दे] एक प्रकार का जूता (बृह ३)।

खप्पर पुं [कपेर] १. मनुष्य-जाति-विशेष, 'पत्ते तम्मि दसएण्णेषु पवलं जं खप्पराणं वलं' (रंभा)। २ भिक्षा-पात्र, कपाल (सुपा ४६५)। ३ खोपड़ी, कपाल (हे १, १८१)। ४ घट वगैरह का टुकड़ा (पउम २०, १६६)।

खप्पर } वि [दे] छत्र, छुवा, निष्ठुर  
खप्पुर } (दे २, ६६; पात्र)।

खम सक [क्षम्] १ क्षमा करना, माफ करना। २ सहन करना। खमइ (उवर ८३; महा)। कर्म. खमिज्जइ (भवि)। कृ. खम्मियव्व (सुपा ३०७; उप ७२८ टी; सुर ४, १६७)। प्रयो. खमावइ (भवि)। संकृ. खमावइत्ता, खमावित्ता (पडि; काल)। कृ. खमावियव्व (कप्प)।

खम वि [क्षम] १ उचित, योग्य; 'सच्चित्तो आहारो न खमो मणसा वि पत्थेदं' (पच ५४; पात्र)। २ समर्थ, शक्तिमान् (दे १, १७; उप ६५०; सुपा ३)।

खमग पुं [क्षमक, क्षपक] तपस्वी जैन साधु (उप पृ ३६२; श्रौष १४०; भत्त ४४)।

खमण न [क्षपण] तपश्चर्या, वेला, तेला आदि तप (पिड ३१२)।

खमण न [क्षपण, क्षमण] १ उपवास (बृह १; निचू २०)। २ पुं. तपस्वी जैन साधु (ठा १०—पत्र ५१४)।

खमय देखो खमग (श्रौष ५६४; उप ४८६; भत्त ४०)।

खमा ली [क्षमा] १ पृथिवी, भूमि; 'उव्वूढ-खमाभारो' (सुपा ३४८)। २ क्रोध का अभाव, क्षान्ति (हे २, १८)। वइ पुं [पति] राजा, नृप, भूपति (धर्म १६)।

समणं पुं [श्रमण] साधु, ऋषि, मुनि (प्रडि)। हर पुं [धर] १ पर्वत, पहाड़। २ साधु, मुनि (सुपा ३२६)।

खमावणया } स्त्री [क्षमणा] खमाना, माफी  
 खमावणा } मांगना (भग १७, ३; राज)।  
 खमाविय वि [क्षमित] माफ किया हुआ  
 (हे ३, १५२; सुपा ३६४)।  
 खमिय वि [क्षमित] माफ किया हुआ  
 (कुप्र १६)।  
 खम्म देखो खण = खन्। खम्मइ (प्राकृ ६८)।  
 खम्मक्खम पुं [दे] १ संग्राम, लड़ाई। २  
 मन का दुःख। ३ पश्चात्ताप का निश्वास  
 (दे २, ७६)।  
 खय देखो खच। खयइ (पड)।  
 खय अक [क्षि] क्षय पाना, नष्ट होना। खयइ  
 (पड)।  
 खय देखो खग (पाप्र)। ३ आकाश तक ऊँचा  
 पहुँचा हुआ (से ६, ४२)। १ राय पुं [राज]  
 पक्षियों का राजा, गहड़-पक्षी (पाप्र)। १ वइ  
 पुं [पति] गहड़-पक्षी (से १५, ५०)।  
 खय न [क्षत] २ ब्रह्म, धाव; 'खारक्खेवं व  
 खए' (उप ७२८ टी)। २ वि. ब्रह्मिण,  
 धवाया हुआ; 'सुणओव्व कीडखओ' (श्रा  
 १४; सुपा ३४६; सुर १२, ६१)। १ यार  
 स्त्री पुं [ाचार] शिविलाचारो साधु या  
 साध्वी (वच ३)।  
 खय वि [खात] खोदा हुआ (पउम ६१,  
 ४२)।  
 खय पुं [क्षय] १ क्षय, प्रलय, विनाश (भग  
 ११, ११)। २ रोग-विशेष, राज-यक्ष्मा  
 (लहृय १५)। १ कारि वि [कारिन्] नाश-  
 कारक (सुपा ६५५)। १ काल, गाल पुं  
 [काल] प्रलय-काल, (भवि; हे ४, ३७७)।  
 १ गि पुं [ाग्नि] प्रलय-काल की आग (से  
 १२, ८२)। १ नाणि पुं [ज्ञानिन्] केवल-  
 ज्ञानी, परिपूर्ण ज्ञानवाला, सर्वज्ञ (विसे  
 ५१८)। १ समय पुं [समय] प्रलय-काल  
 (लहृय २)।  
 खयंकर वि [क्षयकर] नाश-कारक (पउम ७,  
 ८१; ६६, ३४; पुफक ८२)।  
 खयंतकर वि [क्षयान्तकर] नाश-कारक  
 (पउम ७, १७०)।  
 खयर पुं स्त्री [खचर] १ आकाश में चलने-  
 वाला, पक्षी (जी २०)। २ विद्यावर, विद्या  
 बल से आकाश में चलनेवाला मनुष्य (सुर

३, ८८; सुपा २४०)। १ राय पुं [राज]  
 विद्यावरों का राजा (सुपा १३४)।  
 खयर देखो खइर = खदिर (अन्त १२; सुपा  
 ५६३)।  
 खयरफ वि [खादिरफ] खदिर-सन्ध्या। जी.  
 १ फा (सुख २, ३)।  
 खयाल पुं न [दि] बंश-जाल, बोंस का वन  
 (भवि)।  
 खर अक [खर] १ करना, टपकना। २  
 नष्ट होना। खरइ (विसे ४५५)।  
 खर वि [खर] १ निष्ठुर, रत्ता, परप, कठोर  
 (सुर २; ६; दे २, ७८; पाप्र)। २ पुं स्त्री.  
 गर्दम, गषा (पएह १, १; पउम ५६, ४४)।  
 ३ पुं. द्युन्-विशेष (पिग)। ४ न. तिल का  
 तेल (श्रीघ ४०६)। १ कंट न [कण्ट] बबूल  
 वगैरह की शाखा (ठा ३, ४)। १ कंड न  
 [काण्ड] रत्नप्रना पृथिवी का प्रथम काण्ड-  
 शंश-विशेष (जीव ३)। १ क्रम्म न [कर्मन्]  
 जिसमें अनेक जीवों की हानि होती हो ऐसा  
 काम, निष्ठुर बंधा (सुपा ५०५)। १ क्रम्मिअ  
 वि [कर्मिन्] १ निष्ठुर कर्म करनेवाला।  
 २ पुं. कोतवाल, दाण्डपाशिक (श्रीघ २१८)।  
 १ किरण पुं [किरण] सूर्य, सूरज (पिग;  
 सण)। १ दूषण पुं [दूषण] इस नाम का  
 एक विद्यावर राजा, जो रावण का बहनोई  
 वा (पउम १०, १७)। १ नहर पुं [नखर]  
 स्वापद जन्तु, हिंसक प्राणी सुपा १३६;  
 ४७४)। १ निस्सण पुं [निःस्यन]  
 इस नाम का रावण का एक मुन्ड  
 (पउम ५६, ३०)। १ सुइ पुं [मुख]  
 १ अनार्य, देश-विशेष। २ अनार्य देश-विशेष  
 का निवासी (पएह १, ४)। १ मुई स्त्री  
 [मुखी] १ वाद्य-विशेष (पउम ५७, २३;  
 सुपा ५०; श्रीघ)। २ नपुंसक दासी (वच  
 ६)। १ थर वि [तर] १ विशेष कठोर  
 (सुपा ६०६)। २ पुं. इस नाम का एक  
 जैन गच्छ (राज)। १ सन्नय न [संज्ञक]  
 तिल का तेल (श्रीघ ४०६)। १ साविआ स्त्री  
 [साविका] लिपि-विशेष (सम ३५)।  
 १ स्सर पुं [स्वर] परमाधामिक देवों की  
 एक जाति (सम २६)।

खर वि [खर] विनश्वर, धस्यायी (विसे  
 ४५७)।  
 खरंट सक [खरण्टय] १ धूँकारना, निभं-  
 खंता करना। २ लेप करना। खरंटण (सूक्त-  
 ४६)।  
 खरंट वि [खरण्ट] १ धूँकारनेवाला, तिर-  
 स्कारक। २ उलित करनेवाला। ३ प्रशुधि  
 पदार्थ (ठा ४, १; सूक्त ४६)।  
 खरंटण न [खरण्टन] १ निर्भंखन, परप-  
 भाषण (वच १)। २ प्रेरणा (श्रीघ ५० ना)।  
 खरंटणा स्त्री [खरण्टना] कर देखो (श्रीघ  
 ७५)।  
 खरंठिअ वि [खरण्टित] निर्भंखित (कुप्र  
 ३१८)।  
 खरंसूया स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष (संघोष  
 ४४)।  
 खरड पुं [दे] हाथी की पीठ पर विद्याया  
 जाता आन्तरण (पव ८४)।  
 खरड सक [लिप] लेपना, पोतना। संकृ.  
 खरडिअ वि (सुपा ४१५)।  
 खरड पुं [खरट] एक जपन्य मनुष्य-जाति,  
 'अह केणइ खरडेणं किरिणं हट्टिम्मि ववरणव-  
 णियस्स' (सुपा ३६२)।  
 खरडिअ वि [दे] १ रत्ता, रत्ता। २ भग्न,  
 नष्ट (दे २, ७६)।  
 खरडिअ वि [लिप] जिसको लेप किया गया  
 हो वह, पोता हुआ (श्रीघ ३७३ टी)।  
 खरण न [दे] बबूल वगैरह की काण्टक-मय  
 डाली (ठा ४, ३)।  
 खरफरुस पुं [खरपरुष] एक नरक त्याग  
 (द्वेन्द्र २७)।  
 खरय पुं [खरक] भगवान् महावीर के काल  
 में से खीला (मांस कौल) निकालनेवाला एक  
 वैद्य (चइय ६६)।  
 खरय पुं [दे] १ कर्मकर, नौकर (श्रीघ  
 ४३८)। २ राहु (भग १२, ६)।  
 खरहर अक [खरखराय] 'खर-खर' आवाज  
 करना। वक्र. खरहरंत (गउड)।  
 खरहिअ पुं [दे] पौत्र, पोता, पुत्र का पुत्र  
 (दे २, ७२)।  
 खरा स्त्री [खरा] जन्तु-विशेष, नेवला की तरह  
 भुज से चलनेवाला जन्तु-विशेष (जीव २)।

खरिअ वि [दे] युक्त, नमित (दे २, ६७; भवि)।

खरिआ लो [दे] नौकराती, दाती (श्रीय ४३८)।

खरिसुअ पुं [दे. खरिशुक] कन्द-विशेष (श्रा २०)।

खरुही लो [खरोष्ट्री] एक प्राचीन लिपि जो दाहिने से बाएँ को लिखी जाती थी। गांवार लिपि। देतो, खरोष्ट्रिआ (पण १)।

खरुह वि [दे] १ कठिन, कठोर। २ स्पष्ट, विषम और ऊँचा (दे २, ७८)।

खरोष्ट्रिआ लो [खरोष्ट्रिका] लिपि-विशेष (सम ३५)।

खल अक [खल] १ पड़ना, गिरना। २ झूलना। ३ खना। खलइ (प्राप्र)। वक्र.

खलंत, खलमाण (से २, २७; गा ५४६; सुपा ६४१)।

खल अक [खल] अपसरण करना, हटना। खलाहि (उत्त १२, ७)।

खल अ. [खल] पाद प्रति में प्रयुक्त होता अव्यय (प्राक ८१)।

खल वि [खल] १ दुर्जन, अवम मनुष्य (सुर १, १६)। २ न. वान साफ करने का त्यान (विपा १८; धा १४)। ३ पू वि [पू]

खलिहान या खलियान को साफ करनेवाला (कुमा; पड; प्राप्ता)।

खलइअ वि [दे] रिक्त, खाली (दे २, ७१)।

खलखल अक [खलखलाय] 'खल-खल' आवाज करना। खलखलेइ (पि ५५८)।

खलगंडिअ वि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे २, ६७)।

खलण न [खलण] १ नीचे देखो (आचा; से ८, ५५; गा ४६६; वज्जा २६)।

खलणा लो [खलना] १ गिर जाना, निपतन (दे २, ६४)। २ विराघना, भंजन (श्रीय ७८८)। ३ अटकायत, ब्कावट; 'होवा गुणो, ए खलणं करेमि जइ अत्स वसणत्स' (उप ३३६ टी)।

खलभलिय वि [दे] बुद्ध, क्षोभ-प्राप्त (भवि)।

खलहर } पुं [खलखल] नदी के प्रवाह की खलहर } आवाज, 'वहमायावाहिणीणं दिवि-दिसिमुध्वंतलहरासदी' (सुर ३, ११; २, ७५)।

खला अक [दे] खराव करना, मुकसान करना; 'ताणवि खलो खलाइ य' (पउम ३७, ६३)।

खलिअ वि [खलित] १ खना हुआ। २ गिरा हुआ, पतित (हे २, ७७; पाप्र)। ३ न. अपराध, गुनाह। ४ मूल (से १, ६)।

खलिअ वि [खलिक] खल से व्याप्त, खलि-खचित (दे ४, १०)।

खलिण पुं [खलिन] १ लगाम (पाप्र)। २ कायोत्सर्ग का एक दोष (पव ५)।

खलिया लो [खलिका] तिल वगैरह का तैल-रहित चूर्ण, खली, खरी (सुपा ४१४)।

खलियार सक [खली + कृ] १ तिरस्कार करना, धूत्कारना। २ ठगना। ३ उपद्रव करना। खलियारसि, खलियारेंति (सुपा २३७; स ४६८)।

खलियार पुं [खलिकार] तिरस्कार, निर्मत्सना (पउम ३६, ११६)।

खलियारण न [खलीकरण] तिरस्कार (पउम ३६, ८४)।

खलियारणा लो [खलीकरण] वक्चना, ठगाई (स २८)।

खलियारिअ वि [खलीकृत] १ तिरस्कृत (पउम ६६, २)। २ वञ्चित, ठगा हुआ (स २८)।

खलि वि [खलित] स्वलन करनेवाला (वज्जा ५८; सण)।

खली लो [दे. खली] तिल-पिण्डिका, तिल वगैरह का स्नेहरहित चूर्ण, खली (दे २, ६६; सुपा ४१५; ४१६)।

खलीकय देखो खलियारिअ (चउ ४४)।

खलीकर देखो खलियार = खली + कृ। खली-करेइ (स २७)। कर्म. खलीकरोयइ, खली-किजइ (स २८; सण)।

खलीण न [खलीण] देखो खलिण (सुपा ७७; स ५७४)। २ नदी का किनारा; 'खलीणमट्टियं खणमाणे' (विपा १, १—पत्र—१६)।

खलु अ [खलु] विशेष-सूचक अव्यय (दसनि ४, १६)।

खलु अ [खलु] इन अर्थों का सूचक अव्यय—

१ अवधारण, निश्चय (जी ७)। २ पुनः, फिर (आचा)। ३ पावृत्ति और वाक्य की

शोभा के लिए भी इसका प्रयोग होता है (आचा; निचू १०)। 'खित्त न [°चेत्र] जहाँ पर जहरी चीज मिले वह क्षेत्र (वव ८)।

खलुं क पुं [दे] १ गली बैल, अविनीत बैल, (ठा ४, ३—पत्र २४८)। २ अविनीत शिष्य, कुशिय्य (उत्त २७)।

खलुंकिज्ज पुं [दे] १ गली बैल संबन्धी। २ न. उत्तराध्ययन सूत्र का इस नाम का एक अव्ययन (उत्त २७)।

खलुग देखो खलुय (पव ६२)।

खलुय न [खलुक] गुल्फ; पाँव का मणिकव्य (विपा १, ६)।

खल्ल न [दे] १ वाड़ का छिद्र। २ विलास (दे २, ७७)। ३ वि. खाली, रिक्त; 'जाया खल्लकवोला परिसोत्तियमंससोणिया वणिये' (उप ७२८ टी; दे १, ३८)।

खल्ल वि [दे] निम्न-मध्य, जिसका मध्य भाग नीचा हो वह (दे १, ३८)।

खल्लइअ वि [दे] १ संकुचित, संकोच-युक्त। २ प्रहृष्ट, हर्षयुक्त (दे २, ७६; गउड)।

खल्लग } पुं [दे] १ पत्र, पत्ता। २ पत्र-खल्लय } पुट, पत्तों का बना हुआ पुड़वा या दोना (सुप्र १, २, २, १६ टी; पिड २१०; वृह १)।

खल्लग } पुं [दे] १ पाँव का रक्षण खल्लय } करनेवाला चमड़ा, एक प्रकार का जूता (वमं ३)। २ पैला (उप १०३१ टी)।

खल्लो लो [दे] चमं, चमड़ा, खाल (दे २, ६६; पाप्र)।

खल्लो देखो खल्लोड (निचू २०)।

खल्लो लो [दे] संकेत (दे २, ७०)।

खल्लोड (अप) देखो खल्लोड (हे ४, ३८६)।

खल्लो लो [दे] सिर का वह चमड़ा, जिसमें केश पैदा न होता हो (आवम)।

खल्लोड पुं [खल्लोड] जिसके सिर पर बाल न हो, गंजा, चंदला (हे १, ७४; कुमा)।

खल्लोड पुं [खल्लोड] कन्द-विशेष (पण १—पत्र ३६)।

खव सक [क्षपय] १ नाश करना। २ डालना, प्रलेप करना। ३ उल्लंघन करना। खवेइ (उव), खवयति (अग १८, ७)। कर्म. खविज्जति (अग)। वक्र. खवेमाण (साया

१, १८)। संक. खवइत्ता, खवित्तु, खवेत्ता।  
(मग १५; सम्य १६, श्रौप)।  
खव पुं [दे] १ वाम हस्त, बायां हाथ। २  
गर्दन, रासन (दे २, ७७)।  
खवग वि [क्षपक] १ नाश करनेवाला, क्षय  
करनेवाला। २ पुं. तपस्वी जैन-मुनि (उवः  
नाव ८)। ३ वि. क्षपक श्रेणि में ग्राहक  
(कम्म ५)। ०सेडि ली [श्रेणि] क्षपण-  
क्रम, कर्मों के नाश की परिपाटी (मग ६.  
११; उवर ११४)।  
खवडिअ वि [दे] स्वलित, स्वलन-प्राप्त  
(दे २, ७१)।  
खवग } न [क्षपण] १ क्षय, नाश (जोत)।  
खवणय } २ डालना, प्रक्षेप (कम्म ४, ७५)।  
३ पुं. जैन-मुनि (विसे २५८; मुद्रा ७८)।  
खवण देखो खमण; 'विहिय पक्खखवणे सो'  
(वर्म २३)।  
खवणा ली [क्षपणा] ग्रन्थयन, शास्त्र-प्रकरण  
(अणु २५०)।  
खवय पुं [दे] स्कन्ध, कंवा (दे २, ६७)।  
खवय देखो खवग (सम २६; आरा १३;  
आचा)।  
खवल्लिअ वि [दे] कुपित, क्रुद्ध (दे २, ७२)।  
खवह पुं [खवह] मत्स्य-विशेष (विपा १,  
८—पत्र ८३ टी)।  
खवा ली [क्षपा] रात्रि, रात। ०जल न  
[जल] आचरयाय, हिम (ठा ४, ४)।  
खविअ वि [क्षपित] १ विनाशित, नष्ट किया  
हुआ (सुर ४, ५७; प्राप)। २ उद्ध्वित (गा  
१३४)।  
खव्य पुं [दे] १ वाम कर, बायां हाथ।  
२ रासन, गवा (दे २, ७७)।  
खव्य वि [खवे] वामन, कुञ्ज, नाटा (पात्र)।  
खव्य वि [खवे] लघु, थोड़ा; 'अखव्वगव्वो  
कमो आसि' (सिरि ६७५)।  
खवुर देखो कठुर (विक्र २८)।  
खवुल न [दे] मुँह, मुत्र (दे २, ६८)।  
खस अक [दे] खिसकना, गिर पड़ना। खसइ  
(पिंग)।  
खस पुं. व. [खस] १ अनायं देश-विशेष,  
हिन्दुस्थान के उत्तर में स्थित इस नाम का  
एक पहाड़ी मुल्क (पउम ६८-६९)। २ पुं. ली.

वस देश में रहनेवाला मनुष्य (पएह १—पत्र  
१४; इक)।  
खसखस पुं [खसखस] पोस्ता का दाना,  
उशीर, खस (सं ६६)।  
खसफस अक [दे] खसना, खिसकना, गिर  
पड़ना। वक. खसफसेमाण (सुर २, १५)।  
खसफसि वि [दे] व्याकुल, अवीर। ०हूअ  
वि [भूत] व्याकुल बना हुआ (हे ४,  
४२२)।  
खसर देखो कसर = दे कसर (जं २; स  
४८०)।  
खसिअ देखो खइअ = खचित (हे १, १६३)।  
खसिअ न [कसित] रोग-विशेष, खाँसी  
(हे १, १८१)।  
खसिअ वि [दे] खिसका हुआ (मुपा २८१)।  
खसु पुं [दे] रोग-विशेष, पामा; गुजराती में  
'खस' (सण)।  
खह पुंन [खह] आकाश, गगन (मग २०,  
२—पत्र ७७५)।  
खह देखो ख (ठा ३, १)।  
खहयर देखो खयर (श्रौप; विपा १, १)।  
खहयरी ली [खचरी] १ पत्थरी, मादा  
पत्नी। २ विद्याधरो, विद्याधर की ली (ठा  
३, १)।  
खा } सक [खाद] खाना, भोजन करना,  
खाअ } भक्षण करना। खाइ, खायइ, खाउ  
(हे ४, २२८)। खंति (मुपा ३७०; महा)।  
भवि. खाहिइ (हे ४, २२८)। कर्म. खजइ  
(उव)। वक. खंत, खायंत, खायमाण  
(कह १४; पउम २२, ७५; विपा १, १);  
'खंता पिअंता इह जे मरंति, पुरोवि ते खंति  
पिअंति रायं!' (कह १४)। कवक. खजंत,  
खजमाण (पउम २२, ४३; गा २४८;  
पउम १७, ८१; ८२, ४८)। हेक. खाइं  
(पि ५७३)।  
खाअ वि [खायत] प्रसिद्ध, विद्युत (उप ३२६;  
६२३; नव २७; हे २, ६०)। ०किंतीय वि  
[कीत्तिक] यशस्वी, कीर्तिमान् (पउम ७,  
४८)। ०जस वि [यशास्] वही अर्थ  
(पउम ५, ८)।  
खाअ वि [खादित] भुक्त, भक्षित; खाउगि-  
एण— (गा ६६८; नवि)।

खाअ वि [खात] १ खुदा हुआ। २ न. खुदा  
हुआ जलाशय; 'खाम्रोदगाई' (कण्)। ३  
ऊपर में विस्तारवाली और नीचे में संकुचित  
ऐसी परिखा। ४ ऊपर और नीचे समान रूप  
से खुदी हुई परिखा (श्रौप)। ५ खाई, परिखा  
पात्र)।  
खाइ ली [खाति] खाई, परिखा (मुना २६४)।  
खाइ ली [ख्याति] प्रसिद्धि, कीर्ति (मुपा  
५२६; ठा ३, ४)।  
खाइ [दे] देखो खाई (श्रौप)।  
खाइअ देखो खइअ = क्षायिक (विसे ४६;  
२१७५; सत्त ६७ टी)।  
खाइअ वि [खादित] खाया हुआ, भुक्त,  
भक्षित (प्राप; निर १, १)।  
खाइआ ली [दे. खातिका] खाई, परिखा  
(दे २, ७३; पात्र; मुपा ५२६; मग ५, ७;  
पएह २, ५)।  
खाई अ [दे] १—२ वाक्य की शोभा और  
पुनः शब्द के अर्थ का सूचक ग्रन्थय (मग ५,  
४; औप)।  
खाइग देखो खाइअ = क्षायिक (मुपा ५५१)।  
खाइम न [खादिम] अन्न-वर्जित फल, श्रौपव  
वगेरू खाद्य चीज (सम ३६; ठा ४२;  
श्रौप)।  
खाइर वि [खादिर] खदिर-बुद्ध-सम्बन्धी, तैर  
का, कत्यई (हे १, ६७)।  
खाउय न [खायक] खाद्यपदार्थ (मूलशुद्धि  
गा० १७१; देवदिन कया गा. ६ पद्यो)।  
खाओवसम } देखो खओवसमिय (मुपा  
खाओवसमिअ } ५५१; ६४८; सम्य २३)।  
खाओवसमिग देखो खओवसमिअ (अज्ज  
६८; सम्यक्को ५)।  
खाडइअ वि [दे] प्रतिफलित, प्रतिविम्बित  
(दे २, ७३)।  
खाडखड पुं [खाडखड] चौथी नरक-शुचिनी  
का एक नरकावास (ठा ६)।  
खाडहिला ली [दे] एक प्रकार का जानवर,  
गिजहरी, गिल्ली (पएह १, १; उप पृ २०५  
विसे ३०४ टी)।  
खाण पुं [दे] एक म्लेच्छजाति (मुच्छ  
१५२)।  
खाण न [खादन] भोजन, भक्षण; 'खाणोण

अ पाणेण अ तह गहिओ मंडलो अउअणाए  
(गा ६६२; पउम १४, १३६) ।  
खाण न [ख्यान] कयन, उक्ति (राज) ।  
खाणि वी [खानि] खान, आकर (दे २,  
६६; कुमा; सुपा ३४८) ।  
खाणिअ वि [खानित] खुदवाया हुआ (हे  
३, ५७) ।  
खाणी देखो खाणि (पात्र) ।  
खाणु पुं [स्थाणु] स्थाणु, ठूठा वृक्ष, अचल  
खाणुय (परह २, ५; हे २, ७; कस) ।  
खादि देखो खाइ = ब्याति (संज्ञ ६) ।  
खाम सक [क्षमय] खमाना, माफी मांगना ।  
खामेइ (भग) । कर्म. खामिअइ, खामीअइ  
(हे ३, १५३) । संक. खामिआ (भग) ।  
खाम वि [क्षाम] १ कृश, दुर्बल; 'खामपं  
डुकवोल' (उप ६८६ टी; पात्र) । २ क्षीण,  
अशक्त (दे ६, ४६) ।  
खामण न [क्षमण] खमाना (श्रावक ३६५) ।  
खामणा वी [क्षमणा] क्षमापना, माफी  
मांगना, क्षमा-याचना (सुपा ५६४; विवे  
७६) ।  
खामिय वि [क्षमित] १ जिसके पात्र क्षमा  
मांगी गई हो वह, खमाया हुआ (वित्ते २३८८;  
हे ३, १५२) । २ सहन किया हुआ । ३  
विलम्बित, विलम्ब किया हुआ; 'तिरिएण  
अहोरत्ता पुण न खामियां मे कयंतेण' (पउम  
४३, ३१; हे ३, १५३) ।  
खाय पुं [खाद्] पांचवी नरक-भूमि का एक  
नरक-स्थान (देवेन्द्र ११) ।  
खायर देखो खाइर (कर्म ६) ।  
खार पुं [क्षार] १ एक नरक-स्थान (देवेन्द्र  
३०) २ भुजपरिसर्प को एक जाति (सुअ २,  
३, २५) । ५ वैर, दुश्मनी (सुख १, ३) ।  
°डाह पुं [°दाह] क्षार पकाने की भट्टी  
(आचा २, १०, २) । °तंत पुं [°तन्त्र]  
आयुर्वेद का एक भेद, वाजीकरण (ठा ८—  
पत्र ४२८) ।  
खार पुं [क्षार] १ क्षरण, भरना, संचलन  
(ठा ८) । २ भस्म, खाक (खाया १, १२) ।  
३ क्षार, क्षार; लवण-विशेष (सुअ १, ७) ।  
४ लवण, नोन (वृह ४) । ५ जानवर-विशेष  
(परएण १) । ६ सर्जिका, सजी (सुअ १, ४, २) ।

७ वि. कटु या चरपरा स्वादवाला, कटु चीज  
(परएण १७—पत्र ५३०) । ८ खारो चीज,  
नमकीन स्वादवाली वस्तु (भग ७, ६; सुअ १,  
७) । °तउसी [°त्रपुपी] कटु त्रपुपी, वनस्प  
ति-विशेष (परएण १७) । °तिल्ल न [°तैल]  
खारे से संस्कृत तैल (परह २, ५) । °मेह पुं  
[°मेघ] क्षार रसवाले पानी की वर्षा (भग ७,  
६) । °वत्तिय वि [°पात्रिक] क्षार-पात्र में  
जिमाया हुआ । २ क्षार-पात्र का आवार-भूत  
(श्रीप) । °वत्तिय वि [°वृत्तिक] खार में  
फँका हुआ, खार से सींचा हुआ (श्रीप; दसा  
६) । °वापी वी [°वापी] क्षार से भरी हुई  
वापी, कूँघा (परह १, १) ।  
खारंफिडी वी [दे] गोवा, गोह, जन्तु-विशेष  
(दे २, ७३) ।  
खारदूषण वि [खारदूषण] खरदूषण का,  
खरदूषण-सम्बन्धी (पउम ४५, १५) ।  
खारय न [दे] मुकुल, कली (दे २, ७३) ।  
खारायण पुं [क्षारायण] १ ऋषि-विशेष ।  
२ माण्डव्यगोत्र के शाखाभूत एक गोत्र (ठा  
७) ।  
खारि वी [खारी] एक प्रकार की नाप, ३४  
सेर की तौल (गा ८१२) ।  
खारिंभरी वी [खारिंभरी] खारी-परिमित  
वस्तु जिसमें अट सके ऐसा पात्र भर दूब देने-  
वाली (गा ८१२) ।  
खारिक न [दे] फल-विशेष, छुहारा (सिरि  
११६६) ।  
खारिय वि [क्षारित] १ क्षावित, कुराया  
हुआ (वव ६) । २ पानी में घिसा हुआ  
(भवि) ।  
खारी देखो खारि (गा ८१२; जो १) ।  
खारुगणिय पुं [क्षारुगणिक] १ म्लेच्छ देश-  
विशेष । २ उसमें रहनेवाली म्लेच्छ जाति  
(भग १२, २) ।  
खारोदा वी [चारोदा] नदी-विशेष (राज) ।  
खाल सक [क्षाल्य] धोना, पखारना, पानी  
से साफ करना । क. खालणिज्ज (उप ३२६) ।  
खाल वीन [दे] नाला, मोरी, गंदगी निकलने  
का मार्ग (ठा ३, ३) वी. खाला (कुमा) ।  
खालण न [क्षालन] प्रक्षालन, पखारना (सुपा  
३२८) ।

खालिअ वि [क्षालित] धौत, धोया हुआ  
(ती १३) ।  
खावण न [ख्यापन] प्रतिपादन (पंचा १०,  
७) ।  
खावणा वी [ख्यापना] प्रसिद्धि, प्रकथन;  
'अक्खाणं खावणाविहाणं वा' (वित्ते) ।  
खावियं वी [खाद्यमान] जिसको खिलाया  
जाता हो वह, 'काणणिमंसाइं खावियंतं'  
(विपा १, २—पत्र २४) ।  
खावियग वि [खादितक] जिसने खिलाया  
गया हो वह, 'काणणिमंसाखावियगा' (श्रीप) ।  
खावेंत वि [ख्यापयत्] प्रख्याति करता  
हुआ, प्रसिद्धि करता हुआ (उप ८३३ टी) ।  
खास अक [कास्] खांसना, खांसी खाना ।  
खासई (तंदु १६) ।  
खास पुं [कास] रोग-विशेष, खांसी की  
बीमारी, खांसी (विपा १, १; सुपा ४०४;  
सण) ।  
खासि वि [कासिन्] खांसी का रोगवाला  
(सुपा ५७६) ।  
खासिअ न [कासित] खांसी, खांसना (हे १,  
१८१) ।  
खासिअ पुं [खासिक] १ म्लेच्छ देश-विशेष ।  
२ उसमें रहनेवाली म्लेच्छ जाति (परह १,  
१—पत्र १४; इक; सुअ १, ५, १) ।  
खि अक [क्षि] क्षीण होना । कर्म. 'खिज्जइ  
भवसंतली' (स ६८४) । खीयंति, खीयंते  
(कम्म ६, ६६; टी) ।  
खिइ वी [क्षिति] पृथिवी, घरा (पउम २०,  
१५६; स ४१६) । °गोयर पुं [°गोचर]  
मनुष्य, मानुष, आदमी (पउम ५३, ४३) ।  
°पइठु न [°प्रतिष्ठ] नगर-विशेष (स ६) ।  
°पइठुय न [°प्रतिष्ठित] १ इस नाम का  
एक नगर (उप ३२० टी; स ७) । २ राजगृह  
नाम का नगर, जो आजकल बिहार में 'राज-  
गिर' नाम से प्रसिद्ध है (ती १०) । °सार  
पुं [°सार] इस नाम का एक दुर्ग (पउम  
८०, ३) ।  
खिंख अक [सिद्धय] खिंखि आवाज करना ।  
खिंखेइ । वक्र. खिंखियंत (सुख २, ३३) ।  
खिंखिणिया वी [किंकिणिका] क्षुद्र घण्टिका  
(उवा) ।

खिखिणी स्त्री [खिखिणी] ऊपर देखो (ठा १०; णाया १, १; अजि २७)।

खिखिणी स्त्री [दे] शृगाली, स्त्री-सियार (दे २, ७४)।

खिग पुं [खिङ्ग] रंडीवाज, व्यभिचारी; 'अणोमखिगजणउव्वासियरसणे' (रंभा)।

खिस सक [खिस्] निन्दा करना, गहाँ करना, तुच्छकारना। खिसए (आचा)। कर्म. खिसिज्जइ (वृह १)। कवक. खिसि-ज्जंत (उप ५८८)। क. खिसणिज्ज (णाया १, ३)।

खिसण न [खिसन] अणुवाद, निन्दा, गहाँ (श्रोप)।

खिसणा स्त्री [खिसना] निन्दा, गहाँ (श्रोप; उप १३४ टी)।

खिमा स्त्री [खिसा] ऊपर देखो (श्रोप ६०; ३ ४२)।

खिसिय वि [खिसित] निन्दित गहित (ठा ६)।

खिखिखंड पुं [दे] ककलास, गिरगिट, सरट (दे २, ७४)।

खिखिख्यंत वि [खिखीयमान] 'खि-खि' आवाज करता (परह १, ३—पत्र ४६)।

खिखिखरी स्त्री [दे] डोम बगैरह का स्पशं रोकने की लकड़ी (दे २, ७३)।

खिच पुंन [दे] खोचड़ी, कूसरा (दे १, १३४)।

खिज्ज अक [खिद्ध] १ खेद करना, अफसोस करना। २ उद्विग्न होना, थक जाना। खिज्जइ, खिज्जए (स ३४; गउड; पि ४५७)। क. खिज्जियञ्च (महा; गा ५१३)।

खिज्जणिया स्त्री [खेदनिक्का] खेद-क्रिया अफसोस, मन का उद्वेग (णाया १, १६—पत्र २०२)।

खिज्जिअ न [दे] उपालम्भ, उलाहना (दे २, ७४)।

खिज्जिअ वि [खिज्ज] १ खेद-प्राप्त। २ न. खेद (स ५५५)। ३ प्रणय-जन्य रोप (णाया १, ६—पत्र १६५)।

खिज्जिअय न [खेदितक] द्बन्ध-विशेष (अजि ७)।

खिज्जिर वि [खेदित्] खेद करनेवाला, खिन्न होने की आदतवाला (कुमा ७, ६०)।

खिद्धु न [खेल] खेल, क्रीड़ा, मजाक; 'खिद्धेण मए भणियं एयं' (नुपा ३०२); 'वालत्तणं खिद्धुपरो गमेइ' (सत्त ६८)। °कर वि [°कर] खेल करनेवाला, मजाक करनेवाला (नुपा ७८)।

खिण्ण वि [खिन्न] १ खिन्न, खेद प्राप्त। २ श्रान्त, थका हुआ (दे १, १२४; गा २२६)।

खिण्ण देखो खीण (प्राप)।

खित्त वि [क्षिप्त] १ फेंका हुआ (सुर ३, १०२; सुपा ३५७)। २ प्रेरित (दे १, ६३)।

°इत्त, °चित्त वि [°चित्त] भ्रान्त-चित्त, विक्षिप्त-मनस्क, पागल (ठा ५, २; श्रोप ४६७; ठा ५, १)। °मग वि [मनस्] चित्त-भ्रमवाला (महा)।

खित्त देखो खेत्त (अणु; प्रान्त; पडि)। °देयया स्त्री [°देयता] क्षेत्र का अधिष्ठापक देव (आ ४७)। °वाल पुं [पाल] देव-विशेष, क्षेत्र-रक्षक देव (सुपा १५२)।

खित्तज पुं [क्षेत्रज] गोंद लिया हुआ लड़का, 'खित्तज सुएणावि कुलं वट्टउ (कुप्र २०८)।

खित्तय न [क्षिप्तक] द्बन्ध-विशेष (अजि २४; २५)।

खित्तय न [दे] १ अनर्थ, नुकसान। २ वि. दीप्त, प्रज्वलित (दे २, ७६)।

खित्तअ वि [क्षेत्रिक] १ क्षेत्र-सम्बन्धी। २ पुं. व्याधि-विशेष; 'तालुपुडं गरलाणं जह बहुवाहीण खित्तियो वाहो' (आ १२)।

खिन्न देखो खिण्ण = खिन्न (पात्र; महा)।

खिप्प अक [कृप्] १ समर्थ होना। २ दुर्बल होना। खिप्पइ (संक्षि ३५)।

खिप्प वि [क्षिप्र] शीघ्र, स्वरा-युक्त। °गइ वि [°गति] १ शीघ्र गतिवाला। २ पुं. अमितगति इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ५, १)।

खिप्पं अ [क्षिप्रम्] तुरन्त, शीघ्र, जल्दी (प्रासू ३७; पडि)।

खिप्पंत देखो खिव।

खिप्पामेय अ [क्षिप्रमेय] शीघ्र ही, तुरन्त ही (जं ३; महा)।

खिमा स्त्री [क्षमा] पृथिवी (चंड)।

खिर अक [क्षर] १ गिरना; गिर पड़ना। २ टपकना, भरना। खिरइ (हे-४, १७३)।

वह. खिरंत (पउम १०, ३२)।

खिरिय वि [क्षरित] १ टपका हुआ। २ गिरा हुआ (पात्र)।

खिल न [खिल] अकृत-भूमि, ऊसर जमीन (परह १, २—पत्र २३)।

खिलीकरण न [खिलीकरण] खाली करना, शून्य करना; 'बुवजणघोरखिलीकरणकवाड्यो वेत्तवाड्यो' (दे ८)।

खिल्ल सक [कीलय] रोकना, रूकावट डालना; 'भणइ इमाणं वन्धव! गमणं खिल्लेमि कड्ढिं रेहं' (नुपा १३८)।

खिल्ल अक [खिल्ल] क्रीड़ा करना, खेल करना, तमाशा करना। वह. खिल्लंत (नुपा ३६६)।

खिल्ल पुं [दे] फोड़ा, फुनसी; गुनराती में 'खील' (तंदु ३८)।

खिल्लण न [खिलन] खिलौना, खेलनक (सुर १५, २०८)।

खिल्लहड } पुं [दे. खिल्लहड] कन्द-विशेष  
खिल्लहल } (आ २०; धर्म २)।

खिल्लहुड्डा स्त्री [दे] कन्द-विशेष (संवेध ४४)।

खिव सक [क्षिप्] १ फेंकना। २ प्रेरना। ३ डालना। खिवइ, खिवइ (महा)। वह. खिवेमाण (णाया १, २)। कवक. खिप्पंत (काल)। संक. खिविय (कम्म ४, ७४)। क. खिवियञ्च (सुपा १५०)।

खिवण न [क्षेपण] १ फेंकना, क्षेपण (सि १२, ३६)। २ प्रेरण, इधर-उधर चलाना (सि ५, ३)।

खिविय वि [क्षिप्त] १ क्षिप्त, फेंका हुआ। २ प्रेरित (सुपा २)।

खिञ्च देखो खिव। संक. 'अह खिञ्चिऊण सञ्चं, पोए ते पत्तियया रयणभूमि' (यम्म १२ टी)।

खिस अक [दे] सरकना, खिसकना। संक. 'अह नियगामे गच्छतस्स खिसिऊण वाहणा-हितो पडियं' (सुपा ५२७; ५२८)।

खीण देखो खिण्ण = खिन्न; 'कोवेत्थ सुरय-त्तोणो' (पउम ३२, ३)।

खीण वि [क्षिण] १ क्षय-प्राप्त, नष्ट, विखिन्न (सम्म ६०; हे २, ३)। २ दुर्बल, कृप (भग २, ५)। °दुह वि [°दुःख] दुःख-रहित (सम १५३)। °मोह वि [°मोह] १ जिसका मोह नष्ट हो गया हो वह (ठा ३,

४) । २ न. वास्वहां गुण-स्वानक (सम २६) ।  
 °राग वि [°राग] ? चोतराग, राग-रहित ।  
 २ पुं. जिनदेव, तीर्थकर देव (पन्ध १) ।

खीयमाण वि [खीयमाण] जिसका क्षय  
 होता जाता हो वह (गा ६८६ टी) ।

खीर न [खीर] बेला, दो दिन का उपवास  
 (संज्ञ ५८) । °डिंडिर पु [°डिण्डीर]  
 देव-विशेष (कुप्र ७६) । °डिंडिरा स्त्री  
 [°डिण्डीरा] देवी-विशेष (कुप्र ७६) । °वर  
 पुं [°वर] ? समुद्र-विशेष । २ द्वीप-विशेष  
 (सुज १६) ।

खीर न [खीर] ? दुग्ध, दूध (हे २, १७;  
 प्रासू १३; १६८) । २ पानी, जल (हे २,  
 १७) । ३ पुं. क्षीरवर समुद्र का अधिष्ठातक  
 देव (जीव ३) । ४ समुद्र-विशेष, क्षीर-समुद्र  
 (पञ्च ६६, १८) । कर्मव पुं [°कर्मव]  
 इस नाम का एक ब्राह्मण-उपाध्याय (पञ्च  
 २१, ६) । °काओला स्त्री [°काओला]  
 वनस्पति-विशेष, क्षीरविदारि; (परण १) ।

°जल पुं [°जल] क्षीर-समुद्र, समुद्र-विशेष  
 (दीव) । °जलनिहि पुं [°जलनिधि] वही  
 पूर्वोक्त अर्थ (सुपा २६५) । °दुम, °दुम पुं  
 [°दुम] दूधवाला पेड़, जिसमें दूध निकलता  
 है ऐसे वृक्ष की जाति (शोष ३४६; निच  
 ?) । °घाई स्त्री [°घात्री] दूध पिलानेवाली  
 दाई (शाया १, १) । °पूर पुं [°पूर]  
 उबलता हुआ दूध (परण १७) । °प्रभ  
 पुं [°प्रभ] क्षीरवर द्वीप का एक अधिष्ठाता  
 देव (जीव ३) । °मेह पुं [°मेव] दूध-  
 समान स्वादवाले पानी की वर्षा (तित्व) ।

°घई स्त्री [°घती] प्रभूत दूध देनेवाली (वह  
 ३) । °वर पुं [°वर] द्वीप-विशेष (जीव  
 ३) । °वारि न [°वारि] क्षीर समुद्र का  
 जल (पञ्च ६६, १८) । °हर पुं [°गृह,  
 °घर] क्षीर-सागर (वज्ज २४) । °सव  
 पुं [°श्रव] लब्धि-विशेष, जिसके प्रभाव  
 से वचन दूध की तरह मधुर मालूम हो ।

२ ऐसी लब्धिवाला जीव (परह २, १;  
 श्रौप) ।

खीरइय वि [क्षीरकित्त] संजात-क्षीर, जिसमें  
 दूध उत्पन्न हुआ हो वह; 'तए णं जाली  
 पत्तिया वत्तिया गन्धिया पसूया आगयन्वा

खीरा (? २) इया वद्धफला' (शाया १, ७) ।  
 खीरि वि [खीरिन्] ? दूधवाला । २ पुं  
 जिसमें दूध निकलता है ऐसे वृक्ष की जाति  
 (उप १०३१ टी) ।

खीरिञ्जमाण वि [खीर्यमाण] जिसका  
 दोहन किया जाता हो वह (आचा २,  
 १, ४) ।

खीरिणी स्त्री [क्षीरिणी] ? दूधवाली (आचा  
 २, १, ४) । २ वृक्ष-विशेष (परण १—  
 पत्र ३१) ।

खीरी स्त्री [क्षीरेयी] खीर, पक्वान्न-विशेष  
 (सुपा ६३६; पात्र) ।

खीरोअ पुं [खीरोद] समुद्र-विशेष, क्षीर-  
 सागर (हे २, १८२; गा ११७; गउड; उप  
 ५३० टी; स ३४४) ।

खीरोआ स्त्री [खीरोदा] इस नाम की एक  
 नदी (इक ठा २, ३) ।

खीरोद देवो खीरोअ (ठा ७) ।

खीरोदक पुं [खीरोदक] क्षीर-सागर  
 खीरोदय (शाया १, ८; श्रौप) ।

खीरोदा देवो खीरोआ (ठा ३, ४—पत्र  
 १६१) ।

खील पुं [खील, °क] खीला, खूँट,  
 खीलग खूँटी (स १०६; सूप्र १, ११; हे  
 खीलव १, १८१; कुमा) । °मगग पुं  
 [°मार्ग] मार्ग-विशेष, जहाँ धूलो ज्यादा  
 रहने से खूँटे के निशान बनाये गये हों (सूप्र  
 १, ११) ।

खीलावण न [खीलन] खेल कराना, क्रीड़ा  
 कराना । °घाई स्त्री [°घात्री] खेल-कूद  
 करानेवाली दाई (शाया १, १—पत्र ३७) ।

खीलिया देवो कीलिआ (जीवस ४८) ।

खीलिया स्त्री [कीलिका] छोटी खूँटी (आवम) ।

खीव पुं [खीव] मद-प्राप्त, मदोन्मत्त, मस्त  
 (दे, ८, ६६) ।

खु अ [खलु] इन अर्थों का सूचक  
 अव्यय—१ निश्चय, अवधारण । २  
 वितर्क, विचार । ३ संशय, संदेह । ४ संभा-  
 वना । ५ विस्मय, आश्चर्य (हे २, १६८;  
 पड; गा ६; १४२; ४०१; स्वप्न ६; कुमा) ।

खुं देवो खुहा (परह २, ४; सुपा १६८;  
 शाया १, १३) ।

खुइ स्त्री [खुति] ? छोक । २ छोक का  
 निशान (शाया १, १६; भग ३, १) ।

खुइय वि [दे] ? विच्छिन्न । २ विध्यात,  
 शान्त; 'खुइया चिया' (कुप्र १४०) ।

खुंखुणय पुं [दे] नाक का छिद्र (दे २, ७६;  
 पात्र) ।

खुंखुणी स्त्री [दे] रय्या, मुहला (दे २, ७६) ।

खुंगाह पुं [दे] अथ की एक उत्तम जाति  
 (सम्मत २१६) ।

खुंठ पुं [दे] खूँट, खूँटी । °मोडय वि  
 [°मोटक] ? खूँटे को मोड़नेवाला, उससे  
 छूटकर भाग जानेवाला । २ पुं. इस नाम का  
 एक हाथी (नाट—मृच्छ ८४) ।

खुंडय वि [दे] स्वलित, स्वलना-प्राप्त (दे  
 २, ७१) ।

खुंद (शो) सक [खुद्] ? जाना । २ पीसना,  
 कूटना । खुंददि (प्राक ६३) ।

खुंद अक [खुध] भूख लगना । खुंदे  
 (प्राक ६६) ।

खुंपा स्त्री [दे] वृष्टि को रोकने के लिए बनाया  
 जाता एक तृणमय उपकरण (दे २, ७५) ।

खुंभण वि [क्षोभण] क्षोभ उपजानेवाला  
 (परह १, १—पत्र २३) ।

खुज्ज अक [परि + अस्] ? फेंकना । २  
 निरास करना । खुज्जइ (प्राक ७२) ।

खुज्ज वि [कुञ्ज] ? कूबड़ा । २ वामन  
 खुज्जय (हे १, १८१; गा ५३४) । ३ वक्र,  
 टेढ़ा (शोष) । ४ एक पार्श्व से हीन (पव  
 ११०) । ५ न. संस्थान-विशेष, शरीर का  
 वामन आकार (ठा ६; सम १४६; श्रौप) ।  
 स्त्री. खुज्जा (शाया १, १) ।

खुज्जिय वि [कुञ्जिन्] कूबड़ा (आचा) ।

खुट्ट सक [खुट्ट] ? तोड़ना, खरिडत  
 करना, टुकड़ा करना । २ अक. खूटना, क्षीण  
 होना । ३ खूटना, वृद्धि होना । खुट्टइ (नाट—  
 साहित्य २२६; हे ४, ११६); खुट्टंति  
 (सव) ।

खुट्ट वि [दे] वृद्धि, खरिडत, छिन्न (हे २,  
 ७४; भवि) ।

खुड देवो खुट्ट = खुड । खुडइ (हे ४, ११६) ।  
 खुडंति (सं. ८, ४८) । वक्र. 'पवंगमिन्नमत्वया



खुदंतदित्तमोत्तिया (पउम ५३, ११२; स ४४८) । संक. खुडिऊण (स ११३) ।

खुडक देखो खुडुक = (दे) । खुडकए (धर्मवि ७१) ।

खुडाक़िअ [दे] देखो खुडुक्किअ (गा २२६) ।

खुडिअ वि [खण्डित] वृद्धि. खण्डित, विच्छिन्न (हे १, ५३; पड्) ।

खुडुक सक [अप + क्रमय] हयाना, दूर करना । खुडुकइ (प्राक ७०) ।

खुडुक अक [दे] १ नीचे उतरना । २ स्तलित होना । ३ शल्य की तरह चुभना । ४ गुस्ता से मौन रहना । खुडुकइ (हे ४, ३६५) । वक. खुडुकंत (कुमा) ।

खुडुक्किअ वि [दे] १ शल्य की तरह चुभा हुआ, खटका हुआ (उप ३५५) । २ रोप-मूक. गुस्ता से मौन धारण करनेवाला । वी. आ (गा २२६ अ) ।

खुडु } वि [दे. खुद्र. खुडुक] १ लघु,  
खुडुग } छोटा (दे २, ७४; कप्प; दस ३; आचा २, २, ३; उत्त १) । २ नीच, अवम दुष्ट (पुफ ४४१) । ३ पुं. छोटा साधु, लघु सिष्य (सूत्र १, ३, २) । ४ पुं. अंगुलीय-विशेष, एक प्रकार की अंगुठी (श्रीप; उप २०४) ।

खुडुमड्डा अ [दे] १ वह, अत्यन्त । २ फिर-फिर (निचू २०) ।

खुडुय देखो खुडु (हे २, १७४; षड्; कप्प; सम ३५; णाया १, १) ।

खुडुग } देखो खुडुग (श्रीप; परण ३६;  
खुडुगय } णाया १, ७; कप्प) । °णियंठ न [°नैर्ग्रन्थ] उत्तराध्ययन सूत्र का छठवाँ अव्ययन (उत्त ६) ।

खुडुिअ न [दे] सुरत, मैथुन, संभोग (दे २, ७५) ।

खुडुिआ वी [दे. क्षुद्रिका] १ छोटी, लघ्वी (ठा २, ३; आचा २, २, ३) । २ डावर, नही खुदा हुआ छोटा तलाव (जं १; परह २, ५) ।

खुणुखुडिआ वी [दे] ब्राण, नाक, नासिका (दे २, ७६) ।

खुण्ण वि [क्षुण्ण] १ मंदित (गा ४४५; निचू १) । २ क्षुण्णित (दे २, ४५) । ३ मज्ज,

लीन; अजरामरपहलुरणा साहू सरणं सुकय-पुरणा (वच ३८; संया) ।

खुण्ण वि [दे] परिवेष्टित (दे २, ७५) ।

खुत्त वि [दे] निमग्न, हूवा हुआ (दे २, ७४; णाया १, १; गा २७६; ३२४; संया; गउड) ।

°खुत्तो अ [°कृत्वस्] वार, वफा (उव; नुर १४, ६१) ।

खुद वि [खुद्र] तुच्छ, नीच, दुष्ट, अवम (परह १, १; ठा ६) ।

खुद न [चौद्रय] क्षुद्रता, तुच्छता, नीचता (उप ६१५) ।

खुदिमा वी [क्षुद्रिमा] गान्धार ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७—पत्र ३६३) ।

खुद्ध वि [क्षुद्ध] क्षोभ-प्राप्त, धवड़ाया हुआ (सुपा ३२५) ।

खुधा वी [क्षुध्] भूख (धर्मसं १०६२) ।

खुधिय वि [क्षुधित] क्षुधातुर, भूखा (सूत्र १, ३, १) ।

खुन्न देखो खुण्ण = धुएण (पि ५६८) ।

खुन्न देखो खुण्ण = (दे) (पात्र) ।

खुप्प सक [प्लुप्] जलाना । खुप्पइ (प्राक ६५) ।

खुप्प अक [मस्ज्] ह्वना, निमग्न होना ।

खुप्पइ (हे ४, १०१) । वक. खुप्पंत (गउड; कुमा; श्रीप २३; से १३, ६७) । हेक. खुप्पिपं (तंदु) ।

खुप्पिपासा वी [क्षुत्तिपासा] भूख और प्यास (पि ३१८) ।

खुब्भ अक [क्षुभ्] १ क्षोभ पाना, क्षुभित होना । २ नीचे ह्वना । वक. खुब्भंत (ठा ७—पत्र ३८३) ।

खुब्भण. न [क्षोभण] क्षोभ, धवड़ाहट (राज) ।

खुभ अक [क्षुभ्] डरना, धवड़ाना । खुभइ (रयण १८) । क. खुभियव्व (परह २, ३) ।

खुभिय वि [क्षुभित] १ क्षोभ-युक्त, धवड़ाया हुआ (परह १, ३) । २ न. क्षोभ, धवड़ाहट (श्रीप) । ३ कलह, झगड़ा (वह ३) ।

खुम्म अक [क्षुम्] भूख लगना । खुम्मइ (प्राक ६६) ।

खुम्मिय वि [दे] नमित, नमाया हुआ (णाया १, १—पत्र ४७) ।

खुय न [क्षुत] डोंक (चिइय ४३३) ।

खुर-पुं [खुर] जानवर के पाँव का नख (सुर १, २४८; गउड; प्रासू १७१) ।

खुर पुं [खुर] झूरा, उस्तरा (णाया १, ८; कुमा; प्रयो १०७) । °पत्त न [°पत्त] अस्तुरा या उस्तरा, झूरा (विपा १, ६) ।

खुरप्प पुंन [खुरप्र] एक तरह का जहाज (सिरि ३८३) ।

खुरप्प पुं [खुरप्र] १ घास काटने का अस्त्र-विशेष, खुरपा (सम १३४) । २ शस्त्र-विशेष, एक प्रकार का बाण (वेणी ११७) ।

खुरसाण पुं [खुरशान] १ देश-विशेष (पिंग) । २ खुरशान देश का राजा (पिंग) ।

खुरहखुडी वी [दे] प्रणय-कोप (पड्) ।

खुरासाण देखो खुरसाण (पिंग) ।

खुरि वि [खुरिन्] खुरवाला जानवर (आव ३) ।

खुरु पुं [खुरु] प्रहरण-विशेष, आयुध-विशेष (सुर १३, १६३) ।

खुरुड्खुडी वी [दे] प्रणय-कोप (दे २, ७६) ।

खुरुप्प देखो खुरप्प (पउम ५६, १६; स १८४) ।

खुल क [दे] वह गाँव जहाँ साधुओं को भिक्षा कम मिलती हो या भिक्षा में घृत आदि न मिलता हो (वव १) ।

खुल देखो खुम्म । खुलइ (प्राक ६६) ।

खुलिअ देखो खुडिअ (पिंग) ।

खुलुह पुं [दे] गुल्फ, पैर की गाँठ, फीली (दे २, ७५; पात्र) ।

खुल्ल न [दे] कुटी, कुटीर (दे २, ७४) ।

खुल्ल } वि [क्षुल्ल, क] १ छोटा, लघु,  
खुल्लग } खुद्र (परण १) । २ पुं. द्वीन्द्रिय जीव-विशेष (जीव १) ।

खुल्लग देखो खुडुग (कुप्र २७६) ।

खुल्लण (अप) देखो खुडु (पिंग) ।

खुल्लय वि [क्षुल्लक] १ लघु, खुद्र, छोटा (भवि) । २ कपटक-विशेष, एक प्रकार की कौड़ी (णाया १, १८—पत्र २३५) ।

खुल्लासय पुं [दे] खलासी, जहाज का कर्मचारी-विशेष (सिरि ३८५) ।

खुडिरी वी [दे] संकेत (दे २, ७०) ।

खुब पुं [क्षुप] जिसकी शाखा और मूल छोटे होते हैं ऐसा वृक्ष (गाया १, १—पत्र ६५)।  
खुबयं पुं [दे] तुलान-विशेष, कण्टक-तुलान, कंदीला घास (दि २, ७५)।

खुब्ब देखो खुभ। खुब्बइ (पइ)।  
खुब्बय न [दे] पत्ते का पुड़वा, दोना (वच २)।

खुह देखो खुभ। क. खुहियच्च (सुपा ६१६)।  
खुहा स्त्री [क्षुध] भूख, बुझना (महा; प्रासू १७३)। °परिसह, °परीसह पुं [°परिपह, °परीपह] भूख की वेदना को शान्ति से सहन करना (उत्त २; पंचा १)।  
खुहिय वि [क्षुभित] १ क्षोभ-प्राप्त (से १, ४६; सुपा २४१)। २ क्षोभ, संज्ञा (श्रीघ ७)।

खूण न [क्षूण] नुकसान, हानि (सुर ४, ११३; महा)। २ अपराध, गुनाह (महा)।  
३ न्यूनता, कमी (सुपा ७; ४३०)।

खेअ सक [खेदय] खिन्न करना, खेद उपजाना। खेइ (विसे १४७२; महा)।

खेअ पुं [खेद] १ खेद, उद्वेग, शोक (उप ७२= टी)। २ तकलीफ, परिश्रम (स ३१५)।  
३ संयम, विरति (उत्त १५)। ४ यकावट, श्रान्ति (आचा)। °ण्ण, °न्न वि [°ज] निपुण, कुशल, चतुर, जानकार (उप ६०८; श्रीघ ६४७)।

खेअ देखो खेत्त (सुप्र १, ६; आचा)।

खेअ पुं [क्षेप] व्याग, मोचन (सि १२, ४८)।

खेअण न [खेदन] १ खेद, उद्वेग। २ वि. खेद उपजानेवाला (कुमा)।

खेअर देखो खयर (कुमा; सुर ३, ६)। °हिय पुं [°धिप] विद्याधरों का राजा (पउम २८, ५७)। °हियइ पुं [°धिपति] विद्याधरों का राजा (पउम २८, ४४)।

खेअरिद पुं [खेचरेन्द्र] खेचरों का राजा (पउम ६, ५२)।

खेअरी देखो खहयरी (कुमा)।

खेआलु वि [दे] १ निःसह, मन्द, आलसी।  
२ असहिष्णु, ईर्ष्यालु (दि २, ७७)।

खेइय वि [खेदित] खिन्न किया हुआ (स ६३४)।

खेचर देखो खेअर (ठा ३, १)।

खेज्जणा स्त्री [खेदना] खेद-भूचक वाणी, खेद (गाया १, १८)।

खेइ सक [कृप्] खेती करना, चास करना।  
खेइइ (सुपा २७६); 'अह अन्नया य दुन्नवि हलाई खेइति अण्णच्चेव' (सुपा २३७)।

खेइ सक [खेइय] हांकना। खेइए (खेइय ३३७; कुप्र ७१)।

खेइ न [खेइ] १ धूली का प्राकारवाला नगर (श्रीघ; परह १, २)। २ नदी और पर्वतों से वेष्टित नगर (सुप्र २, २)। ३ पुं. मृगया, शिकार (भवि)।

खेइग न [खेटक] फलक, डाल (परह १, ३)।

खेइण न [कर्मण] खेती करना (सुपा २३७)।

खेइग न [खेटन] खेदेना, पीछे हटाना (उप २२६)।

खेइगअ न [खेइगक] खिलौना (नाट—रत्ना ६२)।

खेइय पुं [क्षेपक] १ विप, जहर (हि २, ६)। २ ज्वर-विशेष (कुमा)।

खेइय वि [स्फेटक] नाशक, नाश करनेवाला (हि २, ६; कुमा)।

खेइय न [खेटक] छोटा गांव (पाम्म; सुर २, १६२)।

खेइयग वि [खेलक] खेल करनेवाला, तमासगिर (उप १८८)।

खेइअ वि [कुट्ट] हल से विदारित (दि १, १३६)।

खेइअ पुं [स्फेटिक] १ नाशवाला, नथर।  
२ अनादरवाला (हि २, ६)।

खेइअक [रम्] क्रीड़ा करना, खेल करना।  
खेइइ (हि ४, १६८)। खेइति (कुमा)।

खेइ न [खेल] १ क्रीड़ा, खेल, तमाशा, खेइय मजाक (हि २, १७४; महा; सुपा २७; स ५०६)। २ वहाना, छल; 'मय-खेइयं विहेअण' (सुपा ५२३)।

खेइा स्त्री [क्रीडा] क्रीड़ा, खेल, तमाशा (श्रीघ; पउम ८, ३७; गच्छ २)।

खेइिया स्त्री [दे] वारी, दफा; 'भइ! पच्छिमा खेइिया' (स ४८५)।

खेत्त पुं [क्षेत्र] १ आकाश (विसे २०८८)।

२ कृषि-भूमि, खेत (बृह १)। ३ जमीन, भूमि। ४ देश, गांव, नगर वगैरह स्थान (कण्ठ; पंच; विसे)। ५ भार्या, स्त्री (ठा १०)।  
°कप्प पुं [°कल्प] १ देश का रिवाज (बृह ६)। २ क्षेत्र-संबन्धी अनुष्ठान। ३ ग्रन्थ-विशेष, जिसमें क्षेत्र-विषयक आचार का प्रतिपादन हो (पंच)। °पलिओचम न [°पल्योपम] काल का नाप-विशेष (अणु)। °रिय पुं [°रिय] आर्य भूमि में उत्पन्न मनुष्य (परण १)। देखो खिन्न = क्षेत्र।

खेत्तय पुं [क्षेत्रक] राहु (सुज २०)।

खेत्ति वि [क्षेत्रिन्] क्षेत्रवाला, क्षेत्र का स्वामी (विसे १४६२)।

खेम न [क्षेम] १ कुशल, कल्याण, हित (पउम ६५, १७, गा ४६६; मत्त ३६; खण ६)। २ प्राप्त वस्तु का परिपालन (गाया १, ५)। ३ वि. कुशलता-युक्त, हितकर, उपद्रव-रहित (गाया १, १; दस ७)।  
४ पुं. पाटलिपुत्र के राजा जितशत्रु का एक अमात्य (आच १)। °पुरी स्त्री [°पुरी] १ नगरी-विशेष (पउम २०, ७)। २ विदेह-वर्ष की एक नगरी (ठा २, ३)।

खेमंकर पुं [क्षेमङ्कर] १ कुलकर पुरुष-विशेष (पउम ३, ५२)। २ ऐरवत क्षेत्र के चतुर्थ कुलकर-पुरुष (सम १५३)। ३ ग्रह-विशेष ग्रहाधिष्ठापक देव-विशेष (ठा २, ३)। ४ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि (पउम २१, ८०)। ५ वि. कल्याण-कारक, हित-जनक (उप २११ टी)।

खेमंधर पुं [क्षेमन्धर] १ कुलकर पुरुष-विशेष (पउम ३, ५२) ऐरवत क्षेत्र का पाँचवाँ कुलकर पुरुष-विशेष (सम १५३)। ३ वि. क्षेम-धारक, उपद्रव-रहित (राज)।

खेमथ पुं [क्षेमक] स्वनाम-प्रसिद्ध एक अन्त-कृद् जैनमुनि (अंत)।

खेमराय पुं [क्षेमराज] राजा कुमारपाल का एक पूर्व-पुरुष (कुप्र ५)।

खेमलिज्जिया स्त्री [क्षेमलिया] जैनमुनि-गण की एक शाखा (कण्ठ)।

खेमा स्त्री [क्षेमा] १ विदेह वर्ष की एक नगरी (ठा २, ३)। २ क्षेमपुरी-नामक नगरी-विशेष (पउम २०, १०)।

खेर पुं [दे] एक म्लेच्छ जाति (मृच्छ १५२) ।  
 खेरि स्त्री [दे] १ परिशादन, नाश; 'घण्टखेरि  
 वा' (बृह २) । २ खेद, उद्वेग । ३ उत्कंठा,  
 उत्सुकता (भवि) ।  
 खेल अक [खेल] खेलना, क्रीड़ा करना,  
 तमाशा करना । खेलइ (कप्पु), खेलउ (गा  
 १०६) । वक्र. खेलंत (पि २०६) ।  
 खेल पुं [दे] जहाज का कर्मचारी-विशेष  
 (सिरि ३२५) ।  
 खेल वि [खेल] खेल करनेवाला, नाटक का  
 पात्र (धर्मवि ६) स्त्री. ०लिया (धर्मवि ६) ।  
 खेल पुं [श्लेष्मन्] श्लेष्मा. कफ, निष्ठीवन,  
 यूय (सम १०; औप; कप्य; पडि) ।  
 खेलण } न [खेलन, ०क] १ क्रीड़ा,  
 खेलणय } खेल । २ खिलौना (आक; स  
 १२७) ।  
 खेलोसहि स्त्री [श्लेष्मौपधि] १ लब्धि-  
 विशेष, जिससे श्लेष्म औपधि का काम देने  
 लगे (परह २, १; संति ३) । २ वि. ऐसी  
 लब्धिवाला (आवम; पव २७०) ।  
 खेह देखो खेल = खेल । खेहइ (पि २०६) ।  
 वक्र. खेहमाण (स ४४) । प्रयो. संक्र.  
 खेहवेऊण (पि २०६) ।  
 खेह देखो खेल = श्लेष्मन (राज) ।  
 खेहण देखो खेलण (स २६५) ।  
 खेहावण } न [खेलनक] १ खेल कराना,  
 खेहावणय } क्रीड़ा कराना । २ न. खिलौना  
 (उप १४२ टी) । ०घाई स्त्री [०घात्री] खेल  
 करानेवाली दाई (राज) ।  
 खेह्दिअ न [दे] हसित, हँसी, ठट्टा (दे २,  
 ७६) ।  
 खेल्लुड देखो खल्लुड (राज) ।  
 खेव पुं [क्षेप] १ क्षेपण, फेंकना (उप ७२८  
 टी) । २ न्यास, स्थापना (विते ६१२) । ३  
 संख्या-विशेष (कम्म ४, ८१; ८४) ।  
 खेव पुं [क्षेप] विलम्ब, देरी (स ७७५) ।  
 खेव पुं [खेद] उद्वेग, खेद, क्लेश; 'न हु कोइ  
 गुरु खेवं वचइ सीसेसु सत्तिसुमहेसु (?)'  
 (पउम ६७, २३) ।  
 खेवण न [क्षेपण] प्रेरण (साया १, २) ।  
 खेवय वि [क्षेपक] फेंकनेवाला (गा २४२) ।

खेविय वि [खेदित] खिन किया हुआ  
 (भवि) ।  
 खेह पुंन [दे] धूली, रज; 'वगिररतुरंगवर-  
 सुक्कवयखेहाइन्नरिक्कवहं' (सुर ११, १७१) ।  
 खोअ पुं [क्षोद] १ इक्षु, ऊल । २ द्वीप-  
 विशेष, इक्षुवर द्वीप । ३ समुद्र-विशेष,  
 इक्षुरस समुद्र (अणु ६०) ।  
 खोइय वि [दे] विच्छेदित, 'सन्ने संघी  
 खोइया' (सुव २, १५) ।  
 खोउदय पुं [क्षोदोदक] समुद्र-विशेष (सूअ  
 १, ६, २०) ।  
 खोओद देखो खोदोद (सुज १६) ।  
 खोटग } पुं [दे] खूँटी, खूँटा (उप २७८;  
 खोटय } स २६३) ।  
 खोक्ख अक [खोख्] वानर का बोलना,  
 वन्दर का आवाज करना । खोक्खइ (गा  
 १७१ अ) ।  
 खोक्खा } स्त्री [खोखा] वानर की आवाज  
 खोखा } (गा ५३२) ।  
 खोखुवभ अक [चोक्षुभ्य] अत्यन्त भयभीत  
 होना, विशेष व्याकुल होना । वक्र. खोखु-  
 वभमाण (औप परह १, ३) ।  
 खोज्ज पुंन [दे] मागं-चिह (संति ४७) ।  
 खोट्ट सक [दे] खटखटाना, ठकठकाना,  
 ठोकना । कवक. खोट्टिज्जंत (श्रीघ ५६७  
 टी) । संक्र. खोट्टेडं (श्रीघ ५६७ टी) ।  
 खोट्टिय [दे] वनावटी लकड़ी (नंदीटिप्प. पत्र  
 १४६) ।  
 खोट्टी स्त्री [दे] दासी, चाकरानी (दे २, ७७) ।  
 खोड पुं [स्फोट] फोड़ा (प्राक १८) ।  
 खोड पुं [दे] १ सीमा-निर्वाक काष्ठ, खूँटा ।  
 २ वि. धार्मिक, धर्मिष्ठ (दे २, ८०) । ३  
 खंज, लंगड़ा (दे २, ८०; पिग) । ४  
 शृगाल, सियार (मृच्छ १८३) । ५ प्रदेश,  
 जगह; 'सिगक्खोडे कलहो' (श्रीघ ७६ भा) ।  
 ६ प्रस्फोटन, प्रमाजंन (श्रीघ २६५) । ७ न.  
 राजकुल में देने योग्य सुवर्ण वगैरह द्रव्य  
 (वव १) ।  
 खोडपज्जालि पुं [दे] स्थूल काष्ठ की अग्नि  
 (दे २, ७०) ।  
 खोडय पुं [क्षोटक] नख से त्रम का निष्पी-  
 डन (हे २, ६) ।

खोडय पुं [स्फोटक] फोड़ा, फुंसी (हे २,  
 ६) ।  
 खोडिय पुं [खोटिक] गिरनार पर्वत का  
 क्षेत्रपाल देवता (ती २) ।  
 खोडी स्त्री [दे] १ बड़ा काष्ठ (परह १, ३—  
 पत्र ५३) । २ काष्ठ की एक प्रकार की पेटो  
 (महा) । ३ नकली लकड़ी (३ आव वृ. हारि.  
 पत्र ४२१) ।  
 खोणि स्त्री [क्षोणि] पृथिवी, धरणी (सण) ।  
 ०वइ पुं [०पति] राजा, भूपति (उप ७६८  
 टी) ।  
 खोणिद पुं [क्षोणिन्द्र] राजा, भूमिपति  
 (सण) ।  
 खोणी देखो खोणि (सुर १२, ६१; सुपा  
 २३८; रंभा) ।  
 खोद पुं [क्षोद] १ चूर्णन, विदारण (भग  
 १७, ६) । २ इक्षु-रस, ऊल का रस (सूअ  
 १, ६) । ०रस पुं [०रस] समुद्र-विशेष  
 (दीव) । ०वर पुं [०वर] द्वीप-विशेष (जीव  
 ३) ।  
 खोद पुं [क्षोद] चूर्ण, बुकनी (हम्मोर ३४) ।  
 खोदोअ } पुं [क्षोदोद] १ समुद्र-विशेष,  
 खोदोद } जिसका पानी इक्षु-रस के तुल्य  
 मधुर है (जीव ३; इकं) । २ मधुर पानीवाली  
 बापी (जीव ३) । ३ न. मधुर पानी, इक्षु-  
 रस के समान मिठा जल (परह १) ।  
 खोद न [क्षौद्र] मधु, शहद (भग ७, ६) ।  
 खोभ सक [क्षोभय] १ विचलित करना,  
 धैर्य से च्युत करना । २ आश्चर्य उपजाना ।  
 ३ रंज पैदा करना । खोभइ (महा) वक्र.  
 खोभंत (पउम ३, ६६; सुपा ४६३) । हेक.  
 खोभिच्छए, खोभइडं (उवा; पि ३१६) ।  
 खोभ पुं [क्षोभ] १ विचलता, संभ्रम (आव  
 ५) । २ इस नाम का एक रावण का सुभट  
 (पउम ५६, ३२) ।  
 खोभण न [क्षोभण] क्षोभ उपजाना, विच-  
 लित करना; 'तेलोक्कखोभणकरं' (पउम २,  
 ८२; महा) ।  
 खोभिय वि [क्षोभित] विचलित किया हुआ  
 (पउम ११७, ३१) ।  
 खोम } न [क्षौम] १ कार्पासिक वक्र,  
 खोमग } कपास का बना हुआ वक्र (साया

१, १—पत्र ४३ वी; उवा १) । २ सन का बना हुआ वस्त्र (सम १२३; भग ११, ११; पएह २, ४) । ३ रेयमी वस्त्र (उप १४६; स २००) । ४ वि. अतसी-संवंधी, सन-संवंधी, (ठा १०; भग १, १ ११) । °पसिण न [°प्ररन] विद्या-विशेष, जिससे वस्त्र में देवता का आह्वान किया जाता है (ठा १०) ।

खोमिय न [क्षौमिक] १ कपास का बना हुआ वस्त्र (ठा ३, ३) । २ सन का बना हुआ वस्त्र (कप) ।

खोमिय वि [क्षौमिक] १ रेयमी सम्बन्धी । २ सन-सम्बन्धी (पव १२७) । खोय देखो खोद (सम १५१; इक) । खोर } न [दे] पात्र-विशेष, कचोलक, कटोरा  
खोरय } (उप-पृ १३५; एदि) । खोल पु [दे] १ छोटा गधा (दे २, ८०) । २ वस्त्र का एक देश (दे २, ८०; ५, ३०; वृह १) । ३ मय का नीचला कीट-कदम (आचा २, १, ८; वृह १) । खोल पु [दे] गुप्तचर, जासूस (पिड १२७) । खोल्ल न [दे] कोटर, गह्वर 'खोल्ल कोत्थर' (निच १५) ।

खोसलय वि [दे] दन्तुल, लम्बे और बाहर निकले हुए दाँतवाला (दे २, ७७) । खोसिय वि [दे] जीर्ण-प्राय किया हुआ (पिड ३२१) । खोह देखो खोभ = क्षोभ्य । खोहइ (भवि) । वक्र. खोहंत (से १५, ३३) । कवक. खोहि-जंत (से २, ३) । खोह देखो खोभ = क्षोभ (पएह १, ४; कुमा सुपा ३६७) । खोहण देखो खोभण (आ १२; सुपा ५०२) । खोहिय देखो खोभिय (सए) ।

॥ इअ सिरिपाइअसदमहणवो खआराइसदसंकलणो  
एआरहमी तरंगो समत्तो ॥

## ग

ग पुं [ग] व्यञ्जन-वर्ण विशेष, इसका स्थान कएठ है (प्राभा; प्राप) ।

°ग वि [°ग] १ जानेवाला । २ प्राप्त होने-वाला, जैसे—पारग, वसग (आचा; महा) ।

गअवंत वि [गतवत्] गया हुआ (प्राक ३५) ।

गइ स्त्री [गति] १ ज्ञान, अवबोध (विसे २५०२) । २ प्रकार, भेद (से १, ११) । ३ गमन, चलन, देशान्तर-प्राप्ति, (कुमा) । ४ जन्मान्तर-प्राप्ति, भवान्तर-गमन ठा (१, १; द) । ५ देव, मनुष्य, तिर्यञ्च, नरक और मुक्त जीव की अवस्था, देवादि-योनि (ठा ५, ३) । °तस पुं [°त्रस] अग्नि और वायु के जीव (कम्म ३, १३; ४, १६) । °नाम न [°नामन्] देवादि-गति का कारण-भूत कर्म (सम ६७) । °पवाय पुं [°प्रपात] १ गति की नियतता (पएण १६) । २ ग्रंथांश-विशेष (भग ८, ७) ।

गईद पुं [गजेन्द्र] १ ऐरावण हाथी, इन्द्र-हस्तो । २ श्रेष्ठ हाथी (गउड; कुमा) । °पय

न [°पद] गिरनार पर्वत का एक जल-तीर्थ (ती ३) ।

गइल्लय देखो गय = गत (मुख २, २२) ।

गउ } पुं [गो] वैल, वृषभ, साँड़ (हे १, गउअ) १५८) । °पुच्छ पुं न [°पुच्छ] १ वैल की पूँछ । २ बाण-विशेष (कुमा) ।

गउअ पुं [गवय] गो-तुल्य आकृतिवाला जंगली पशु-विशेष, नील गाय (कुमा) ।

गउआ स्त्री [गो] गैया, गौ (हे १, १५८) ।

गउड पुं [गौड] १ स्वनाम ह्यात देश, बंगाल का पूर्वी भाग (हे १, २०२; सुपा ३८६) । २ गौड़ देश का निवासी (हे १, २०२) । ३ गौड़ देश का राजा (गउड; कुमा) । °वह पुं [°वध] वाक्यतिराज का बनाया हुआ प्राकृत-भाषा का एक काव्य-ग्रंथ (गउड) ।

गउण वि [गौण] अप्रवान, अनुष्य (दे १, ३) ।

गउणी स्त्री [गौणी] शक्ति-विशेष, शब्द की एक शक्ति (दे १, ३) ।

गउरव देखो गारव (कुमा; हे १, १६३) ।

गउरविय वि [गौरवित] गौरव-युक्त किया हुआ, जिसका आदर—सम्मान किया गया हो वह; 'तज्जणयाइं तत्यागयाइं धेवेहिं चव वियहेहिं, गउरवियाइं रयणायेरेण' (सुपा ३५६; ३६०) ।

गउरी स्त्री [गौरी] १ पार्वती, शिव-पत्नी (सुपा १०६) । २ गौर वर्णवाली स्त्री । ३ स्त्री-विशेष (कुमा) । °पुत्त पुं [°पुत्त] पार्वती का पुत्र, स्कन्द, कार्तिकेय (सुपा ४०१) ।

गंअ देखो गय = गत; 'भीया जहागयगईं पडिबज्ज गंए' (रंभा) ।

गंग पुं [गङ्ग] मुनि-विशेष, द्विक्रिय मत का प्रवर्तक आचार्य (ठा ७; विसे २४२५) । °दत्त पुं [°दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पृष्ठ वासुदेव के पूर्वजन्म के गुरु थे (स १५३) । २ नववें वासुदेव के पूर्वजन्म का नाम (पउम २०, ७१) । ३ इस नाम का एक जैन श्रेष्ठी (भग १६, ५) । °दत्ता स्त्री [°दत्ता] एक सार्यवाह की स्त्री का नाम (विपा १, ७) । गंगं देखो गंगा । °पवाय पुं [°प्रपात]

हिमाचल पर्वत पर का एक महान् हृद, जहाँ से गंगा निकलती है (ठा २, ३)। °सोअ पुं [°सोअत्] गंगा नदी का प्रवाह (पि ८५)।

गंगली स्त्री [दे] मौन, बुद्धि (सुपा २७८; ४८७)।

गंगा स्त्री [गङ्गा] १ स्वनाम-प्रसिद्ध नदी (कस; सम २७; कप्प)। २ स्त्री-विशेष (कुमा)। ३ गोशालक के मत से काल-परिमाण-विशेष (भग १५)। ४ गंगा नदी की अविष्ठायिका देवी (आवम)। ५ भोग्मपितामह की माता का नाम (राया १, १६)। कुंड न [कुण्ड] हिमाचल पर्वत पर स्थित हृद-विशेष, जहाँ से गंगा निकलती है (ठा ८)। °कुंड न [°कुण्ड] हिमाचल पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३)। °दीव पुं [°द्वीप] द्वीप-विशेष, जहाँ गंगा-देवी का भवन है (ठा २, ३)। °देवी स्त्री [°देवी] गंगा की अविष्ठायिका देवी, देवी-विशेष (इक)। °वत्त पुं [°वर्त्त] आवर्त्त-विशेष (कप्प)। °सय न [°शत] गोशालक के मत में एक प्रकार का काल-परिमाण (भग १५)। °सागर पुं [°सागर] प्रसिद्ध तीर्थ-विशेष, जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है (उत्त १८)।

गंगेअ पुं [गङ्गेय] १ गंगा का पुत्र, भोग्म-पितामह (राया १, १६; वेणी १०४)। २ द्वैतिय मत का प्रवर्त्तक आचार्य (आव १)। १ एक जैन मुनि, जो भगवान् पार्श्व-नाथ के वंश के थे (भग ६, ३२)।

गंङ्ग पुं [दे] बहड़, इस नाम की एक गंङ्गय। न्तेच्छ जाति (दे २, ८४)।

गंङ्गिय पुं [दे] तेली। गु० चाची (लोक प्र० ४६५, ११-३१ सम)।

गंज सक [गञ्ज] १ तिरस्कार करना। २ उल्लंघन करना। ३ मर्दन करना। ४ पराभव करना। गंजइ (जय ५)। कृ. गंजणीय (सिरि ३८)।

गंज पुं [दे] गाल (दे २, ८१)।

गंज पुं [गञ्ज] भोज्य-विशेष, एक प्रकार की छाद्य वस्तु (परह २, ५—पत्र १४८)। °साला स्त्री [°शाला] वृण, लकड़ी वगैरह इत्यन रखने का स्थान (निचू १५)।

गंजण न [गञ्जन] १ अपमान, तिरस्कार (सुपा ४८०)।

विरिणवि रणणुप्पजा,

वज्जति गया न चैव केसरिणो।

संभावज्जइ मरणं,

न गंजणं धोरपुरिसाणं (वजा ४२)।

२ कलंक, दाग; 'गंजणरहिओ जम्मो' (वजा १८)।

गंजण वि [गञ्जन] मर्दनकर्ता (सिरि ५४६)।

गंजा स्त्री [गञ्जा] सुरा-गृह, मद्य की दूकान (दे २, ८५ टी)।

गंजिअ पुं [गञ्जिक] कल्य-पाल, दाह बेचने-वाला, कलाल (दे २, ८५ टी)।

गंजिअ वि [गञ्जिन] १ पराजित, अभिमूत; 'तगरिमगंजिओ इव' (उप ६८६ टी)। २ हत, मारा हुआ, विनाशित (पिग)। ३ पीड़ित (हे ४, ४०६)।

गंजिह वि [दे] १ द्वियोग-प्राप्त, वियुक्त। २ भ्रान्त-चित्त, पागल (दे २, ८३)।

गंजुहिय वि [दे] रोमाञ्चित, पुलकित (जय १२)।

गंजोल वि [दे] समाकुल, व्याकुल (पड्)।

गंजोलिअ वि [दे] १ रोमाञ्चित, जिसके रोम खड़े हुए हों वह (दे २, १००; भवि)। २ न. हंसाने के लिए किया जाता भ्रम-स्पर्श; गुदगुदी, गुदगुदाहट (दे २, १००)।

गंठ सक [गंथ] १ गठना, रूँघना। २ रचना, बनाना। गंठइ (हे ४, १२०; पड्)।

गंठ देखो गंथ (राय; सूत्र २, ५; धर्म २)।

गंठि स्त्री [गुष्टि] एकवार व्यायी हुई गौ (प्राह ३२)।

गंठि पुंजी [गन्धि] १ गंठ, जोड़। २ वाँस आदि की गिरह, पर्व (हे १, ३५; ४, १२०)। ३ गठरी, गंठ (राया १, १; औप)। ४ रोग-विशेष (लहृम १५)। ५ राग-द्वेष का निबिड़ परिणाम-विशेष (उप २५३); 'गंठित्ति सुदुग्गेओ कम्मजणणुत्तमूडगंठि व्व। जौवत्स कम्मजणिओ धणरागहोसपरिणामा' (विते ११६५)।

°छेअ पुं [°च्छेद] गंठ तोड़नेवाला, चोर-विशेष, पाकेटमार (दे २, ८६)। °भेय पुं [°भेद] ग्रन्थि का भेदन (धर्म १)। °भेयग

वि [°भेदक] १ ग्रन्थि को भेदनेवाला। २ पुं. चोर-विशेष (राया १, १८; परह १, ३)। °वण्ण पुं [°वर्ण] सुगन्धि गन्ध विशेष (कप्प)। °सहिय वि [°सहित] १; गंठ-युक्त। २ न. प्रत्याख्यान-विशेष, व्रत-विशेष (धर्म २; पडि)।

गंठिम न [गन्धिम] १ ग्रन्थन से बनी हुई माला वगैरह (परह २, ५; भग ६, ३३)। २ गुल्म-विशेष (परह १—पत्र ३२)।

गंठिय वि [ग्रथित] रूँघा हुआ, गठा हुआ, पुरोया हुआ (कुमा)।

गंठिय वि [ग्रन्थिक] गंठवाला (सूत्र २, ५)।

गंठिह वि [ग्रन्थिमत्] ग्रन्थि-युक्त, गंठ-वाला (राज)।

गंड पुं [दे] १ वन, जंगल। २ दाएडपायिक, कोतवाल। ३ छोटा मृग (दे २, ६६)। ४ नापित, नाई (दे २, ६६; आचा २, १, २)। ५ न. गुच्छ, समूह; 'कुसुमदामगंडपुव-दुविय' (महा)।

गंड पुंन [गण्ड] १ गाल, कपोल (भग; सुपा ८)। २ रोग-विशेष, गरडमाला; 'ता मा करेह वीयं गंडोवरिफोडियातुल्लं' (उप ७६८ टी; आचा)। ३ हाथी का कुम्भस्थल (पव २६)। ४ कुच, स्तन (उत्त ८)। ५ ऊँच का जत्वा, इलु-समूह (उप पृ ३५६)। ६ छन्द-विशेष (पिग)। ७ फोड़ा, स्फोटक (उत्त १०)। ८ गंठ, ग्रन्थि (अवि १७; अमि १८४)। °भेअ, भेअअ पुं [°भेदक] चोर-विशेष, पाकेटमार (अवि १७; अमि १८४)। °माणिया स्त्री [°माणिका] धान्य का एक प्रकार की नाप (राय)। °माला स्त्री [°माला] रोग-विशेष, जिसमें शीवा फूल जाती है (सण) °यल न [°तल] कपोल-तल (सुर ४, १२७)। °लेहा स्त्री [°लेखा] कपोल-वाली, गाल पर लगाई हुई कस्तूरी वगैरह की छटा (निर १, १; गडड)। °वच्छा स्त्री [°वच्छा] पीन स्तनों से युक्त छाती-वाली स्त्री (उत्त ८)। °वाणिया स्त्री [°वाणिका] वाँस का पात्र-विशेष; जो डाला से छोटा होता है (भग ७, ८)। °वास पुं [°पार्श्व] गाल का पार्श्व-भाग; (गडड)।

गंड न [गण्ड] दोप, नाग (सूत्र १, ६ १६)। °माणिया ली [°मानिका] पात्र-विशेष (राय १४०)। °विडवाय पुं [°व्यति-पात] ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध एक योग (संबोध ५४)।

गंडइया ली [गण्डिका] नदी-विशेष (आवम)।

गंडय पुं [गण्डक] १ गंडा, जानवर-विशेष (पात्र: दे ७, ५७)। २ उदघोषणा करने-वाला पुरुष, टेर लगानेवाला पुरुष (शोध ६४४)।

गंडली ली [दे] गंडेरी, ऊल का टुकड़ा (उप पु १०६)।

गंडा देखो गंठि = ग्रन्थि (प्राक् १८)।

गंडाग पुं [गण्डक] नाई, हजाम (आचा २, १, २, २)।

गंडि पुं [गण्डि] जन्तु-विशेष (उत्त १)।

गंडि वि [गण्डिन्] १ गण्डमाला का रोग-वाला (आचा)। २ गण्ड रोगवाला (परह २, ५)।

गंडिया ली [गण्डिका] १ गंडेरी, ऊल का टुकड़ा (महा)। २ सोनार का एक उपकरण (ठा ४, ४)। ३ एक अर्थ के अधिकारवाली ग्रन्थ-पद्धति (सम १२६)।

गंडिल देखो गंधिल (इक)।

गंडिलावई देखो गंधिलावई (इक)।

गंडी ली [गण्डी] १ सोनार का एक उपकरण (ठा ४, ४—पत्र २७१)। २ कमल की कणिका (उत्त ३६)। °तिदुग न [°तिन्दुक] यज्ञ-विशेष (ती ३८)। °पय पुं [°पद] हाथी वगैरह चतुष्पद जानवर (ठा ४, ४)। °पोस्थय पुं [°पुस्तक] पुस्तक-विशेष (ठा ४, २)।

गंडीरी ली [दे] गण्डेरी, ऊल का टुकड़ा (दे २, ८२)।

गंडीव न [गाण्डीव] १ अर्जुन का धनुष (विणी ११२)।

गंडीव न [दे-गाण्डीव] धनुष, कामुक (दे २, ८४; महा: पात्र)।

गंडीवि पुं [गाण्डीविन्] अर्जुन, मध्यम पारदव (विणी ५८)।

गंडुअ न [गण्डु] ओत्तीसा, सिरहाना (महा)।

गंडुअ न [गण्डुत्] तृण-विशेष (दे २, ७५)।

गंडुल पुं [गण्डोल] कृमि-विशेष, जो पेट में पैदा होता है (जी १५)।

गंडुवहाण न [गण्डोपधान] गाल का तकिया (पत्र ८४)।

गंडूपय पुं [गण्डूपद] जन्तु-विशेष (राज)।

गंडूल देखो गंडुल (परह १, १—पत्र २३)।

गंडूस पुं [गण्डूप] पानी का कुल्ला (गा २७०; सुपा ४४६); 'बहुमइरागंडूसपाए' (उप ६८६ टी)।

गंडूस पुं [गण्डूप] पानी का कुल्ला (सूयनि ५४)।

गंत देखो गां।

गंतव्य } देखो गम = गम्।  
गंता }

गंतिय न [गन्तुक] तृण-विशेष (परह १—पत्र ३३)।

गंती ली [गन्ती] गाड़ी, शकट (धम्म १२ टी; सुपा २७७)।

गंतुं देखो गम = गम्।

गंतुंपचागया ली [गत्वाप्रत्यागता] मिसा-चर्चा-विशेष, जैन मुनियों की मिसा का एक प्रकार (ठा ६)।

गंतुकाम वि [गन्तुकाम] जाने की इच्छा वाला (था १४)।

गंतुमण वि [गन्तुमनस्] ऊपर देखो (वसु)।

गंतुण } देखो गम = गम्।  
गंतुण }

गंध देखो गंठ—ग्रन्थ। गंधइ (पि ३३३)। कर्म. गंधीअंति (पि ५४८)।

गंध पुं [ग्रन्थ] १ शास्त्र, सूत्र; पुस्तक (विसे ८६४; १३८३)। २ धन-वाच्य वगैरह बाह्य मिथ्यात्व, क्रोध, मान आदि आश्रयन्तर उपधि, परिग्रह (ठा २, १; वृह १; विसे २५७३)। ३ धन, पैसा (स २३६)। ४ स्वजन, संबन्धी लोग (परह २, ४)। °ईअ पुं [°तीत] जैन साधु (सूत्र १, ६)।

गंधि वि [ग्रन्थिन्] रचना-कर्ता (सम्मत् १३६)।

गंधि देखो गंठि (परह १, ३—पत्र ४४)।

गंधिम देखो गंठिम (एया १, १३)।

गंदिला ली [गन्दिला] देखो गंधिल (इक)।

गंदीणी ली [दे] क्रीड़ा-विशेष, जिसमें अंख बंद की जाती है, अंख-मिचौनी (दे २, ८३)।

गंदुअ देखो गेंदुअ (पड)।

गंध पुं [गन्ध] १ गन्ध, नासिका से ग्रहण करने योग्य पदार्थों की वास, महक (श्रीप; भग; हे १, १७७)। २ लव, लेश (से ६, ३)। ३ तृण-विशेष (परह १, १)। ४ वानव्यन्तर देवों की एक जाति (इक)। ५ न. देव-विमान-विशेष (निर १, ४)। ६ वि. गन्धयुक्त पदार्थ (सूत्र १, ६)। °उडी ली [°कुटी] गन्ध-द्रव्य का घर (गडड; हे १, ८)। °कासाइया ली [°काषायिका] सुगन्धि कपाय रंग की साड़ी (उवा; भग ६, ३३)। °गुण पुं [°गुण] गन्धव्य गुण (भग)। °दृय न [°दृक] गन्ध-द्रव्य का तृण (ठा ३, १—पत्र ११७) °डूह वि [°डूह] गन्धपूर्ण, सुगन्धपूर्ण (पंचा २)। °णाम न [°नामन्] गन्ध का हेतुभूत कर्म-विशेष (अणु)। °तेल्ल न [°तैल] सुगन्धित तेल (कप्पु)। °दव्व न [°द्रव्य] सुगन्धित वस्तु, सुवासित द्रव्य (उत्त १)। °देवी ली [°देवी] देवी-विशेष, सौधर्म देवलोक की एक देवी (निर १, ४)। °द्वणि ली [°ध्रणि] गन्ध वृत्ति (एया १, १—पत्र २५; श्रीप)। °नाम देखो °णाम (सम ६७)। °मय पुं [°मृग] कस्तूरी मृग, कस्तूरिया हरिन (सुपा २)। °मंत वि [°वत्] १ सुगन्धित, सुगन्ध-युक्त। २ श्रातिशय गन्धवाला, विशेष गन्ध से युक्त (ठा ५, ३—पत्र ३३३)। °मादण, °मायण पुं [°मादन] १ पर्वत-विशेष, इस नाम का एक पहाड़ (सम १०३; परह २, २; ठा २, ३—पत्र ६६)। २ पुं. पर्वत-विशेष का एक शिखर (ठा २, ३—पत्र ८०)। ३ न. नगर-विशेष (इक)। °वई ली [°वती] भूतानन्द-नामक नागेन्द्र का आवास-स्थान (दीव)। °वदृय न [°वर्त्तक]

सुगन्धित लेप-द्रव्य (विपा १, ९)। °वट्टि  
 ली [°वत्ति] गन्ध-द्रव्य की बनाई हुई, गोली  
 (राया १, १; औप)। °वह पुं [°वह]  
 पवन, वायु (कुमा; गा ५४२)। °वास पुं  
 [°वास] १ सुगन्धित वस्तु का पुट। २ चूण-  
 विशेष (सुपा ६७)। °समिद्ध वि [°समृद्ध]  
 १ सुगन्धित, सुगन्ध-पूर्ण। २ न. नगर-विशेष  
 (आवम; इक)। °सालि पुं [°शालि] सुग-  
 न्धित ब्रीहि, धान (आवम)। °हृत्थि पुं  
 [°हृस्तिन्] उत्तम हस्ती, जिसकी गन्ध से दूसरे  
 हाथी भग जाते हैं (सम १; पडि)। °हरिण पुं  
 [°हरिण] कस्तुरिया हिरन (कप्प)। °हारग  
 पुं [°हारक] १ इस नाम का एक म्लेच्छ  
 देश। २ गन्धहारक देश का निवासी (परह  
 १, १—पत्र १४)।

गंधग पुं [गन्धन] एक सर्प-जाति (स  
 २, ८)।

गंधपिसाया पुं [दे] गन्धक, पसारी (दे २,  
 ८७)।

गंधय देखो गंध (महा)।

गंधलया स्त्री [दे] नासिका, घ्राण (दे २, ८५)।

गंधवाह पुं [गन्धवाह] पवन (समु १८०)।

गन्धञ्ज पुं [गन्धर्व] १ देव-गायक, स्वर्ग-गायक  
 (उत्त १; सण)। १ एक प्रकार की देव-जाति,  
 व्यंतर देवों की एक जाति (परह १, ४,  
 औप)। ३ यज्ञ-विशेष, भगवान् कुन्धुनायक का  
 शासनाधिष्ठायक यज्ञ (संति ८)। ४ न.  
 मुहूर्त्त-विशेष (सम ५१)। ५ नृत्य-युक्त गीत,  
 गान (विपा १, २)। °कंठ न [°कण्ठ] रत्न  
 की एक जाति (राय)। °घर न [°गृह]  
 संगीत-गृह, संगीतालय, संगीत का अन्यास-  
 स्थान (जं १)। °णगर, °नगर न [°नगर]  
 असत्य-नगर, संव्या के समय में आकाश में  
 दीखता मिथ्या-नगर, जो मावी उत्पात का  
 सूत्रक है (अणु; पव १६८)। °पुर न [°पुर]  
 देखो °णगर (गडड)। °लिपि स्त्री [°लिपि]  
 लिपि-विशेष (सम ३५)। °विवाह पुं  
 [°विवाह] उत्सव-रहित विवाह, स्त्री-पुरुष  
 को इच्छा के अनुसार विवाह (सण)। °साला  
 स्त्री [°शाला] गान-शाला, संगीत-गृह, संगी-  
 तालय (वव १०)।

गन्धञ्ज वि [गन्धर्व] १ गन्धर्व-संवन्धो; गन्धर्व  
 से संबन्ध रखनेवाला (जं १; अमि ११५)।  
 २ पुं. उत्सव-हीन विवाह, विवाह-विशेष;  
 'गन्धर्वेण विवाहेण सयमेव विवाहिया'  
 (आवम)। ३ न. गीत, गान (पाय)।

गन्धञ्जि वि [गन्धर्विन्] गानेवाला (ती ३)।  
 गन्धञ्जिअ वि [गन्धर्विक] १ गन्धर्व-विद्या  
 में कुशल (सुपा १६६)।

गन्धा स्त्री [गन्धा] नगरी-विशेष (इक)।  
 गन्धाण न [गन्धान] छन्द-विशेष (पिग)।  
 गन्धार पुं [गन्धार] देश-विशेष, कन्धार (स  
 ३८)। २ पर्वत-विशेष (स ३६)। ३ न.  
 नगर-विशेष (स ३८)।

गन्धार पुं [गन्धार] स्वर-विशेष, रागिनी-  
 विशेष (ठा ७)।

गन्धारी स्त्री [गन्धारी] १ सती-विशेष, कृष्ण  
 वासुदेव की एक स्त्री (पडि; अंत १५)। २  
 विद्यादेवी-विशेष (संति ६)। ३ भगवान्  
 नमिनाथ की शासनदेवी (संति १०)।

गन्धारी स्त्री [गन्धारी] विद्या-विशेष (सूत्र  
 २, २, २७)।

गन्धावइ पुं [गन्धापातिन्] स्वनाम-प्रसिद्ध  
 गन्धावाइ } एक वृत्त, वैताव्य पर्वत (इक; ठा  
 २, ३—पत्र ६६; ८०; ठा ४, २—पत्र  
 २२३)।

गन्धि वि [गन्धिन्] गन्ध-युक्त, गन्धवाला  
 (कप्प; गडड)।

गन्धिअ वि [दे] दुर्गन्ध, खराब गन्धवाला (दे  
 २, ८३)।

गन्धिअ पुं [गन्धिक्] गन्ध-द्रव्य देचनेवाला,  
 पसारी (दे २, ८७)।

गन्धिअ वि [गन्धिक्] गन्ध-युक्त, 'सुगन्धवर-  
 गन्धगन्धिण' (औप)। °साला स्त्री [°शाला]  
 दाहू वगैरह गन्धवाली चीज की दुकान (वव  
 ९)।

गन्धिअ वि [गन्धित] गन्ध-युक्त, गन्धवाला  
 (स ३७२; गा ५४५; ८७२)।

गन्धिल पुं [गन्धिल] वर्ष-विशेष, विजय-क्षेत्र-  
 विशेष (ठा २, ३; इक)।

गन्धिलावई स्त्री [गन्धिलावती] १ क्षेत्र-  
 विशेष, विजयवर्ष-विशेष (ठा २, ३; इक)।  
 २ नगरी-विशेष (द्र ६१)। °कूड न [°कूट]

१ गन्धमादन पर्वत का एक शिखर (जं ४)।  
 २ वैताव्य पर्वत का शिखर-विशेष (ठा ९)।  
 गन्धिही स्त्री [दे] छाया, छांह (उप १०३१  
 टी)।

गन्धुत्तमा स्त्री [गन्धुत्तमा] मदिरा, सुरा  
 (दे २, ८६)।

गन्धेही स्त्री [दे] १ छाया, छांह। २ मधु-  
 मक्षिका (दे २, १००)।

गन्धोद्ग } न [गन्धोद्क] सुगन्धित जला  
 गन्धोद्दय } सुगन्ध-वासित पानी (औप; विप,  
 १, ९)।

गन्धोही स्त्री [दे] १ इच्छा, अभिलाषा। २  
 रजनी, रात (दे २, ६६)।

गन्धिपि } देखो गम = गम्।  
 गन्धिपणु }

गन्धीर न [गन्धीर्य] १ गम्भीरता। २  
 अनौद्धत्य (सूत्रनि ६६)।

गन्धीर वि [गन्धीर] १ गम्भीर, अस्ताप,  
 अतुच्छ, गहरा (औप; से ६, ४४; कप्प)।  
 २ पुं. गहन-स्थान, गहन प्रदेश, जहाँ प्रति-  
 शब्द उक्त हो (विसे ३४०४; वृह १)।

३ पुं. रावण का एक सुभट (पल्लम ५६, ३)।  
 ४ यदुवंश के राजा अन्वकवृष्णि का एक पुत्र  
 (अंत ३)। ५ न. समुद्र के किनारे पर स्थित  
 इस नाम का एक नगर (सुर १३, ३०)।

°पोय न [°पोत] नगर-विशेष (राया १,  
 १७)। °मालिणी स्त्री [°मालिनी] महा-  
 विदेह-वर्ष की एक नगरी (ठा २ ३)।

गन्धीरा स्त्री [गन्धीरा] १ गन्धीर-हृदया स्त्री  
 (वव ५)। २ मात्रा-छन्द का एक भेद  
 (पिग)। ३ क्षुद्र जंतु-विशेष, चतुरिन्द्रय जीव  
 विशेष (परण १)।

गन्धीरिअ न [गन्धीर्य] गम्भीरता, गम्भीरपन  
 (हे २, १०७)।

गन्धीरिम पुं स्त्री [गन्धीर्य] ऊपर देखो  
 (सण)।

गगण न [गगण] आकाश, अम्बर (कप्प; स  
 ३४८)। °णदण न [°नन्दन] वैताव्य पर्वत  
 पर का एक नगर (इक)। °वह्म, °वह्म  
 न [°वह्म] वैताव्य पर्वत पर का एक नगर  
 (राज; इक)।

गगणंग पुं न [गगणाङ्ग] छन्द-विशेष (पिग)।

गग्ग पुं [गर्ग] १ ऋषि-विशेष । २ गोत्र-विशेष, जो गौतम गोत्र की एक शाखा है (ठा ७) ।

गग्ग पुं [गर्ग] १ एक जैन महर्षि (उत्त २७, १) । २ विक्रम की वारहवीं शताब्दी का एक श्रेष्ठी (कुप्र १४३) ।

गग्ग पुं [गार्ग्य] गर्ग गोत्र में उत्पन्न ऋषि-विशेष (उत्त २७) ।

गग्गर वि [गद्गद्] १ गद्गद् आवाजवाला, अति अस्पष्ट वक्ता (प्राप्र) । २ आनंद या दुःख से अत्यक्त कथन (हे १, २१६; कुमा) ।

गग्गरी स्त्री [गर्गरी] गगरी, छोटा घड़ा (दे २, ८६; सुपा ३३६) ।

गग्गिर देखो गग्गर; 'रुजगग्गिरं गेअ' (गा ८४३; सए) ।

गच्छ सक [गम्] १ जाना, गमन करना । २ जानना । ३ प्राप्त करना । गच्छइ (प्राप्र; पड्) । भवि. गच्छं (हे ३, १७१; प्राप्र) । वक्र. गच्छंत, गच्छमाण (सुर ३, ६६; भग १२; ६) । संक्र. गच्छिअ (कुमा) । हेक्र. गच्छित्तए (पि ५६८) ।

गच्छ पुंन [गच्छ] १ समूह, साथ, संघात (स १४८) । २ एक आचार्य का परिवार (श्रौप; सं ४७) । ३ गुरु-परिवार; 'गुरुपरिवारो गच्छो, तत्य वसंताएण गिंजरा विज्जा' (पंचव; धर्म ३) । वास पुं [वास] गुरुकुल में रहना, गच्छपरिवार के साथ निवास (धर्म ३) । विहार पुं [विहार] गच्छ की सामाचार्य, गच्छ का आचार (वव १) । सारणा स्त्री [सारणा] गच्छ का रक्षण (राज) ।

गच्छागच्छि अ. गच्छ-गच्छ से होकर (श्रौप) । गच्छिल वि [गच्छवत्] गच्छवाला, गच्छ में रहनेवाला (वृह १) ।

गज देखो गय = गज (गड्; प्रास १७१; इक) । सार पुं [सार] एक जैन मुनि; दण्डक-ग्रन्थ का कर्ता (दं ४७) ।

गज पुं [दे] जव, यव, अन्न-विशेष (दे २, ८१; पात्र) ।

गज न [गज] छन्द-रहित वाक्य, प्रबन्ध (ठा ४, ४—पात्र २८७) ।

गज अक [गर्ज] गरजना, गड़गड़ाना, घड़-घड़ाना । गजइ (हे ४, ६८) । वक्र. गजंत, गजयंत (सुर २, ७५; सए ५८) ।

गज्जण न [गर्जन] १ गर्जन, भयानक ध्वनि, मेघ या सिंह का नाद । २ नगर-विशेष (उप ७६५) ।

गज्जणसद् पुं [दे. गर्जनशब्द] पशु और हाथी की आवाज (दे २, ८८) ।

गज्जल } वि [दे] देश-विशेष में उत्पन्न  
गज्जल } (वक्र) (आचा २, ५, १, ५; ७) ।  
गज्जभं पुं [गर्जभं] पश्चिमोत्तर दिशा का पवन (आवम) ।

गज्जर पुं [दे] कन्द-विशेष, गाजर, गजरा, इसका खाना धर्म-शास्त्र में निषिद्ध है । (था १६; जी ६) ।

गज्जल वि [गर्जल] गर्जन करनेवाला (निचू ७) ।

गज्जह देखो गज्जभ (आवम) ।

गज्जि स्त्री [गर्जि] गर्जन, हाथी वगैरह की आवाज (कुमा सुपा ८६; उप पृ ११७) ।

गज्जिअ वि [गर्जित] १ जिसने गर्जन किया हो वह, स्तनित (पात्र) । २ न. गर्जन, मेघ वगैरह की आवाज (पएह १, ३) ।

गज्जित्तु } वि [गर्जित्तु] गर्जन करनेवाला,  
गज्जिर } गरजनेवाला (ठा ४, ४—पत्र २६६; गा ५५) ।

गज्जिल्लिअ न [दे] १ गुदयुदी, गुदयुदाहट । २ अंग-स्पर्श से होनेवाला रोमांच, पुलक (पड्) ।

गज्ज वि [ग्राह] ग्रहण-योग्य (स १४०; विते १७०७) ।

गट्टण पुं [गट्टन] धरणी की नाट्य-सेना का अधिपति (राज) ।

गट्टिया स्त्री [दे] गट्टिया, गुठली; 'अवगट्टिया' (निचू १५) ।

गड न [गड] १ विस्तीर्ण शिला, मोटा पत्थर (दे २, ११०) । २ गर्त, खाई (सुर १३, ४१) ।

गड (मा) देखो गय = गत (प्राप्र) ।

गडयड पुंन [दे] गर्जन, भयानक ध्वनि, हाथी वगैरह की आवाज; 'ता गडयडं कुणंती, समागमो गयवरो, तत्य' इत्यंतरे सयं चिय,

सो जक्खो गडयडं पकुव्वंती (सुपा २८१; ५४२) ।

गडयड अक [दे] गर्जन करना, भयानक आवाज करना । वक्र. गडयडंत (सुपा १६४) ।

गडयडी स्त्री [दे] वज्र-निर्घोष, गड़गड़ आवाज, मेघ-ध्वनि (दे २, ८५; सए) ।

गडयड न [दे] गड़वड़, गोलमाल (सुपा ५४१) ।

गडिअ } देखो गम = गम् ।  
गडुअ }

गडुल न [दे] चावल वगैरह का धोया-जल, चावल आदि का धोवन (धर्म २) ।

गडु पुंजी [गत्त] गड़हा, गड़डा (हे २, ३२; प्राप्र; सुपा ११४) । स्त्री. गडुा (हे १, ३५) ।

गडु न [दे] शकट, गाड़ी (तो १५) ।

गडुरिगा } स्त्री [दे] भेड़ी, मेपी, ऊणयि;  
गडुरिया } 'गडुरिगपवाहेणं गयाणुगइयं जणं वियाणंती' (धम्म; सूत्र १, ३, ४) ।

गडुरी स्त्री [दे] १ छागी, अजा, बकरी (दे २, ८४) । २ भेड़ी, मेपी (सट्टि ३८) ।

गडुह पुंजी [गर्दभ] गदहा, गवा, खर (हे २, ३७) । वाहण पुं [वाहन] रावण, दशानन (कुमा) ।

गडुआ } स्त्री [दे] गाड़ी, शकट (श्लोष ३८६  
गडुा } टी; दे २, ८१; सुपा २५२) ।

गडुह न [दे] शय्या, बिछौना (दे २, ८१) ।

गड देखो घड = घट् । गडइ (हे ४, ११२) ।

गड पुंजी [दे] गड, दुर्ग, किला, कोट (दे २, ८१; सुपा २५; १०५) । स्त्री. गडा (कुमा) ।

गडिअ वि [घटित] गड़ा हुआ, जटित (कुमा) ।

गडिअ वि [ग्रथित] १ सूँधा हुआ, निबद्ध; 'नेहनिगडगडियाणं' (उप ६८६ टी; पएह १, ४) । २ रचित, गुम्फित, निर्मित (ठा २, १) । ३ गूढ़, आसक्त; (आचा २, २, २; पएह १, २) ।

गण सक [गणय्] १ गिनना, गिनती करना । २ आदर करना । ३ अभ्यास करना, आवृत्ति करना । ४ पर्यालोचन करना । गणइ, गणेइ (कुमा; महा) । वक्र. गणंत, गणंत (पंचा ४; से ४, १५) । क. गणोयव्व (उप ५५५) ।



गण पुं [गण] १ समूह, समुदाय. युय, बोक (जी ३४; कुमा; प्रासू ४; ७५; १५१) । २ गच्छ, समान आचार व्यवहारवाले साधुओं का समूह (कम्प) । ३ छन्दः—शास्त्र प्रसिद्ध मान्ना-समूह (पिंग) । ४ शिव का अनुचर (पात्र; कुमा) । ५ मल्लों का समुदाय (अणु) ।  
 °ओ अ [°तस्] अनेकशः, बहुशः (सूत्र २, ६) । °नायग पुं [°नायक] गण का मुखिया (खाया १, १) । °नाह पुं [°नाथ] १ गण का स्वामी, गण का मुखिया (सुपा २, १०) । २ गणधर, जिनदेव का प्रधान शिष्य (पठम १२, २) । ३ आचार्य, सूरि (सार्धं २३) । °भाव पुं [°भाव] त्रिवेक-विशेष (गठड) । °राय पुं [°राज] १ सामन्त राजा (भग ७, ६) । २ सेनापति (आव ३; कम्प) । °वइ पुं [°पति] १ गण का स्वामी । २ गणेश, गजानन, शिवपुत्र (गा ३७२ गठड) । ३ जिनदेव का मुख्य शिष्य, गणधर (सिग्ध २) । °सामि पुं [°स्वामिन्] गण का मुखिया, गणधर (उप २८० टी) । °हर पुं [°धर] १ जिनदेव का प्रधान शिष्य (सम ११३) । २ अनुपम ज्ञानादिगुण-समूह को धारण करनेवाला जैन साधु, आचार्य वगैरह; 'सेज्जमव गणहर' (आवम; पव २७६) । °हरिद पुं [°धरेन्द्र] गणधरों में श्रेष्ठ, प्रधान गणधर (पठम ३, ४३; ५८, १) । °हारि पुं [°धारिन्] देखो °हर (गण २३; सार्धं १) । °जीव पुं [°जीव] गण के नाम से निर्वाह करनेवाला (ठा ५, १) । °वच्छेइय, °वच्छेदय, °वच्छेयय पुं [°वच्छेदक] साधु-गण के कार्य की चिन्ता करनेवाला साधु (आचा २, १, १०; ठा ३, ३; कम्प) । °हिवइ पुं [°धिपति] १ शिव-पुत्र, गजानन, गणेश (गा ४०३; पात्र) । २ जिनदेव का प्रधान-शिष्य (पठम २६, ४) ।  
 गणना पुं [गणक] १ ज्योतिषी, जोशी, ज्योतिष-शास्त्र का जानकार, देवज्ञ (खाया १, १) । २ नंडारी, भाण्डागारिक (खाया १, १—पत्र १६) ।  
 गणण न [गणन] गिनती, संख्या (वव १) ।  
 गणणा स्त्री [गणना] गिनती, संख्या, संख्यान (सुर २, १३२; प्रासू १००; सूत्र २, २) ।

गणगाइआ स्त्री [दे. गण-नायिका] पार्वती, चण्डी, शिवपत्नी (दे २, ८७) ।  
 गणय देखो गणग (ओप; सुपा २०३) ।  
 गणसम वि [दे.] गोष्ठी-रत, गोठ में लीन (दे २, ८७) ।  
 गणायमहपुं [दे.] विवाह-गणक (दे २, ८६) ।  
 गणाविअ वि [गणित] गिनती कराया हुआ (स ६२६) ।  
 गणि वि [गणिन्] १ गण का स्वामी, गण का मुखिया । स्त्री, गणिणी (सुपा ६०२) । २ पुं. आचार्य, गच्छनायक, साधु-समुदाय का नायक (ठा ८) । ३ जिनदेव का प्रधान साधु-शिष्य (पठम ६१, १०) । ४ परिच्छेद, निश्चय, सिद्धान्त (एदि) । °पिडग न [°पिटक] १ वारह मुख्य जैन आगम ग्रन्थ, द्वादशाङ्गी (सम १; १०६) । २ निधुंक्ति वगैरह से युक्त जैन आगम (ओप) । ३ पुं. यज्ञ-विशेष, जिन-शासन का अविधायक देव (संति ४) । ४ निश्चय-समूह, सिद्धान्त-समूह (एदि) । °विज्जा स्त्री [°विद्या] १ शास्त्र-विशेष । २ ज्योतिष और निमित्त शास्त्र का ज्ञान (एदि) ।  
 गणि पुं स्त्री [गणि] अव्ययन, परिच्छेद, प्रकरण (एदि १४३) ।  
 गणिम न [गणिम] गिनती से बेची जाती वस्तु, संख्या पर जिसका भाव हो वह (आ १८; खाया १, ८) ।  
 गणिम न [गणिम] १ गणना, गिनती, संख्या । २ वि. संख्येय, जिसकी गिनती की जा सके वह, (अणु १५४) ।  
 गणिय वि [गणित] १ गिना हुआ । २ न. गिनती, संख्या (ठा ६; जं २) । ३ जैन साधुओं का एक कुल (कम्प) । ४ अंक गणित, गणित-शास्त्र (एदि; अणु) । °लिपि स्त्री [°लिपि] लिपि-विशेष, अंक-लिपि (सम ३५) ।  
 गणिय पुं [गणिक] गणित-शास्त्र का ज्ञाता, 'गणियं जाणइ गणिया' (अणु) ।  
 गणिया स्त्री [गणिका] बेर्या, गणिका (आ १२ विपा १, २) ।  
 गणिर वि [गणयितृ] गिनती करनेवाला (गा २०८) ।

गणेत्तिआ स्त्री [दे.] १. स्त्राल का बना गणेत्ती । १. हुआ हाथ का आभूषण-विशेष (खाया १, १६—पत्र २१३; ओप; भग; महा) । २ अन्न-माला (दे २, ८१) ।  
 गणेशर पुं [गणेश्वर] १ गण का नायक । २ छन्द-विशेष (पिंग) ।  
 गणग वि [गण्य] गणनीय, संख्येय (संखेव १०) ।  
 गणणा (मा) स्त्री [गणना] गिनती (प्राक १०२) ।  
 गत्त न [गात्र] देह, शरीर (ओप; पात्र; सुर २, १०१) ।  
 गत्त देखो गट्ट (भग १५) । स्त्री. गत्ता (सुपा २१४) ।  
 गत्त न [दे.] १ ईया, चौपाई या चारपाई की लकड़ी-विशेष । २ पंक, कदम (दे २, ६६) । ३ वि. गत्, गया हुआ (पड) ।  
 °गत्तण वि [कर्तन] काटनेवाला, छेदक (सूत्र १, १५, २४) ।  
 गत्तडि स्त्री [दे.] १ गवादनी, गोचर-भूमि गत्ताडी (दे २, ८२) । २ गायिका, गाने-वाली स्त्री (पड दे २, ८२) ।  
 गत्य वि [ग्रस्त] कवलित, ग्रास किया हुआ; 'अइमहच्छलोभगच्छा (? त्या)' (पणह १, ३—पत्र ४४; नाट—चैत १४६) ।  
 गद् सक [गट्ट] बोलना, कहना । वक्र. गदंत (नाट—चैत ४५) ।  
 गदि देखो गइ = गति (वेदन् ३५१) ।  
 गटुअ (शौ) अ [गत्या] जाकर (प्राक ८८) ।  
 गद् देखो गज्ज = गद्य (प्राक २१) ।  
 गदतोय पुं [गदतोय] लोकात्मिक देवों की एक जाति (सम ८५; खाया १, ८) ।  
 गद्भ पुं [दे.] कटु-ध्वनि, कण-कटु आवाज (दे २, ८२; पात्र; स १११; ४२०) ।  
 गद्भ देखो गद्ह = गर्दभ (प्राक) ।  
 गद्भय देखो गद्हय (आचा २, ३, १; आवम) ।  
 गद्भाल पुं [गर्दभाल] स्वनाम-प्रसिद्ध एक परिव्राजक (भग) ।  
 गद्भालि पुं [गर्दभालि] एक जैन मुनि (ती २५) ।  
 गद्भिह पुं [गर्दभिह] उज्जयिनी का एक राजा (नित्र १०; पि २६१; ४००) ।

गद्भी स्त्री [गर्दभी] १ गधो, गदही (पि २६१) । २ विद्या-विशेष (काल) ।

गद्दह पुं [गर्दभ] १ गदहा, गवा, खर (सम ५०; दे २, ८०; पाश्र्व; हे २, ३७) । २ इस नाम का एक मन्त्रि-पुत्र (वृह १) ।

गद्दह न [दे] कुमुद, चन्द्र-विकासी कमल (दे २, ८३) ।

गद्दहय पुं [गर्दभक] १ सुद्व जन्तु-विशेष, जो गोशाला वगैरह में उत्पन्न होता है (जी १७) । २ देखो गद्दह (नाट) ।

गद्दही देखो गद्दभी (नाट—युच्छ ५८; निच १०) ।

गद्दिअ वि [दे] गदित, गर्द-युक्त (दे २, ८३) ।

गद्द पुं [गुध्र] पक्षि-विशेष, गोघ, गिद्ध (श्रौप) ।

गद्ग वि [गण्य] १ माननीय, आदरास्पद; 'दियमण्यो करेत्तो, कस्स न होइ गद्दो गुरुगणो', 'सब्बो गुणेहि गद्दो' (उव) । २ न-गणना, गिनती; 'युल्लस कुणइ गन्' (सुपा २५३) ।

गद्भ पुं [गर्भ] १ कुलि, पेट, उदर (ठा ५, १) । २ उत्पत्ति-स्थान, जन्म-स्थान (ठा २, ३) । ३ अणु, अन्तरापत्य (कण्य) । ४ मध्य, अन्तर, भीतर का (शाया १, ८) ।

गरा स्त्री [करी] गर्भाधान करनेवाली विद्या-विशेष (सूत्र २, २) । 'घर न [गृह] भीतर का घर, घर का भीतरी भाग (शाया १, ८) । 'ज वि [ज] गर्भ में उत्पन्न होनेवाला प्राणी, मनुष्य, पशु वगैरह (पउम १०२, ६७) । 'थ वि [थ] १ गर्भ में रहनेवाला । २ गर्भ से उत्पन्न होनेवाला मनुष्य वगैरह (ठा २, २) । 'मास पुं [मास] कार्तिक से लेकर माघ तक का महीना (वव ७) । 'य देखो ज (जी २३) । 'वई स्त्री [वती] गर्भिणी स्त्री (सुपा २७६) । 'वक्कति स्त्री [व्युत्कान्ति] १ गर्भाशय में उत्पत्ति (ठा २, ३) । 'वक्कतिअ वि [व्युत्कान्तिक] गर्भाशय में जिसकी उत्पत्ति होती है वह (सम २; २५) । 'हर देखो घर (सुर ६, २१; सुपा १८२) ।

गद्भर न [गद्दर] १ कोटर, उहा । २ गहन, विपम स्थान (भाव ४; पि ३३२) ।

गद्भर देखो गद्दर; 'गद्भरो' (प्राक् २४; संक्षि १६) ।

गद्भाहाण न [गर्भाधान] संस्कार-विशेष (राय १४६) ।

गद्भिज्ज पुं [दे. गर्भज] जहाज का निम्न श्रेणी का नौकर 'कुच्छिधारकल्लधारगम्भिज (ज्ज) संजत्ताणावावाणियमा' (शाया १, ८—पत्र १३३; राज) ।

गद्भिण वि [गर्भित] १ जिसको गर्भ गद्भिण्य पैदा हुआ हो वह, गर्भ-युक्त (हे १, १०८; प्राप्र; शाया १, ७) । २ युक्त, सहित; 'विडिसदलनीलभित्तिगम्भिण्य' (कुमा; पड) ।

गद्भिल्ल देखो गद्भिज्ज (शाया १, १७—पत्र २२८) ।

गद्भ सक [गम्] १ जाना, गति करना, चलना । २ जानना, समझना । ३ प्राप्त करना । भूका. गमिही (कुमा) । कर्म. गम्मइ, गमिज्जइ (हे ४, २४६) । कवक. गम्ममाण (स ३४०) । संक्ष. गंतु, गमिअ, गंता, गतूण; गंतूण (कुमा; पड; प्राप्र; श्रौप; कस), गडुअ, गडिअ, गडुअ (शौ); (हे ४, २७२; पि ४८१; नाट—मालती ४०), गमेपिप, गमेपिपणु, गंपिप, गंपिपणु (अप); (कुमा) । हेक्. गंतु (कस; श्रा १४) । क. गंतव्य, गमणिज्ज, गमणीअ (शाया १, १; गा २४६; उव; भग; नाट) ।

गद्भ सक [गमय] १ ले जाना । २ व्यतीत करना, पसार करना, गुजारना । गर्भति (गउड); 'बुहा! मुहा मा दिपेह गमेह' (सत्त ४) । कर्म: गमेज्जति (गउड) । वक. गमंत (सुपा २०२) । संक्ष. गमिऊण (पि) हेक्. गमित्तए (पि ५७८) ।

गद्भ पुं [गम] १ गमन, गति, चाल (उप २२० टी) । २ प्रवेश (पउम १, २६) । ३ शास्त्र का तुल्य पाठ, एक तरह का पाठ, जिसका तात्पर्य भिन्न हो (दे १, १; वित्ते ५४६; भग) । ४ व्याख्या, टीका (वित्ते ६१३) । ५ बोध, ज्ञान, समझ (अणु; शांदि) । ६ मार्ग, रास्ता (ठा ७) ।

गद्भ पुं [गम] १ प्रकार (वव १) । २ वि. जंगम (महानि ४) ।

गद्भ वि [गमक] बोधक, निश्चायक (वित्ते ३१५) ।

गद्भ न [गमन] गमन, गति (भग; प्रासु १३२) । २ वेदन, बोध (शांदि) । ३ व्याख्यान, टीका । ४ पुण्य वगैरह नव नक्षत्र (राज) ।

गद्भण्या स्त्री [गमन] गमन, गति 'लोगंत-गमणा' } गमणयाए' (ठा ४, ३); 'पायवंदए पहारेत्य गमणाए' (शाया १, १—पत्र २६) ।

गद्भणिज्ज देखो गम = गम् ।

गद्भणिश स्त्री [गमनिका] १ संक्षिप्त, व्याख्यान, दिग्दर्शन (राज) । २ गुजारना, अतिक्रमण; 'कालगमणिया एत्य उवाभो' (उप ७२८ टी) ।

गद्भणी स्त्री [गमनी] १ विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से आकाश में गमन किया जा सकता है (शाया १, १६—पत्र २१३) । २ जूता; 'संनोवि जणो जलं विगाहि तो उत्तारइ गमणीओ चरणाहितो' (सुपा ६१०) ।

गद्भणीअ देखो गम = गम् ।

गद्भय देखो गद्भ (वित्ते २६७३) ।

गद्भर वि [दे. ग्राम्य] श्रविदग्ध, मूर्ख (संक्षि ४७) ।

गद्भाष देखो गम = गम्य । गमावइ (सरा) ।

गद्भिअ वि [गभिक] प्रकारवाला (वव १) ।

गद्भिद वि [दे] १ अपूर्ण । २ बूढ़ । ३ स्वलित (पड) ।

गद्भिय वि [गमित] १ गुजारा हुआ, अतिक्रान्त (गउड) । २ ज्ञापित, बोधित, निवेदित (वित्ते ५५६) ।

गद्भिय न [गमिक] शास्त्र-विशेष, सदृश पाठवाला शास्त्र; 'भंग-गणियाइ गमियं सति-सगमं च कारणवसेण' (वित्ते ५४६; ४५४) ।

गद्भिर वि [गन्ट] जानेवाला (हे २, १४५) ।

गद्भेपिप } देखो गम = गम् ।

गद्भेपिपणु }

गद्भेर देखो गद्भर (संक्षि ४७) ।

गद्भेस देखो गद्भेस । गमेसइ (हे ४, १८६) ।

गद्भेसंति (कुमा) ।

गद्भ्य वि [गम्य] १ जानने योग्य । २ जो जाना जा सके (उवर १७०; सुपा ४२६) । ३ हराने योग्य, आक्रमणीय (सुर १२६;

१५, १४४)। ४ जाने योग्य। ५ भोगने योग्य—स्वपत्नी वगैरह (सुर १२, ५२)।  
गम्म न [गम्य] गमन, 'अगम्मगम्मं सुविणेषु धम्मं' (सुख ८, १३)।

गम्मसाण देखो गम = गम्।

गय वि [दे] १ धूम्रित, भ्रमित, धुमाया गया (दे २, २६; पङ्)। २ मृत, मरा हुआ, निर्जीव (दे २, २६)।

गय वि [गत] १ गया हुआ (सुपा ३३४)। २ अतिक्रान्त, गुजरा हुआ (दे १, ५६)। ३ विज्ञात, जाना हुआ (गउड)। ४ नष्ट, हत (उप ७२८ टी)। ५ प्राप्त; 'आषईगयंमि सुहए' (प्रासू ८३; १०७)। ६ स्थित, रहा हुआ; 'मरणयं' (उत्त १)। ७ प्रविष्ट, जिसने प्रवेश किया हो (ठा ४, १)। ८ प्रवृत्त (सूत्र १, १, १)। ९ व्यवस्थित (श्रौप)। १० न. गति, गमन; 'उसमो गईदमयगलनुल्लियगय-विक्रमो मयवं (वसु; सुपा ५७८; आचा)।  
°पाण वि [°प्राण] मृत, मरा हुआ (आ २७)। राय वि [°राग] राग-रहित, बीतराग, निरीह (उप ७२८ टी)। °वइया, °वइं वी [°पतिका] १ विधवा, राई; (श्रौप; पउम २६, ४२)। २ जिसका पति विदेश गया हो वह वी; प्रोपित-भतृका (गा ३३२; पउम २६, ४२)। °वय वि [°वयस्] वृद्ध, बुढ़ा (पात्र)। °णुगइअ वि [°णुग-तिक] अंब, परम्परा का अनुयायी, अंब-श्रद्धालु (उवर ४६)।

गय पुं [गज] १ हाथी, हस्ती, कुंजर (अणु; श्रौप; प्रासू १५४; सुपा ३३४)। २ एक अंतकृत जैन मुनि, गज सुकुमाल मुनि (अंत ३)। ३ इस नाम का एक सेठ (उप ७६८ टी)। ४ रावण का एक सुभट (पउम ५६, २)। °उर न [°पुर] नगर-विशेष, कुह देश का प्रधान नगर, हस्तिनापुर (उप १०१४; महा; सण)। °कण्ण, °कन्न पुं [°कण] १ द्वीप-विशेष। २ उसमें रहनेवाला (जीव ३; ठा ४, २)। °कलभ पुं [°कलभ] हाथी का बच्चा (राय)। °गय वि [°गत] हाथी के ऊपर आहड़ (श्रौप)। °गपय पुं [°गपय] पवंत-विशेष (आक)। °थ्य वि [°स्थ] हाथी के ऊपर स्थित (पउम ८, ८६)। °पुर

देखो °उर (सूत्र १, ५, १)। °बंधय पुं [°बंधक] हाथी को पकड़नेवाली जाति (सुपा ६४२)। °मारिणी वी [°मारिणी] वनस्पति-विशेष, गुच्छ विशेष (परण १—पत्र ३२)। °मुह पुं [°मुख] १ गणेश, गणपति, शिव-पुत्र (पात्र)। २ यक्ष-विशेष (गण ११)। °राय पुं [°राज] प्रधान हाथी, श्रेष्ठ हस्ती (सुपा ३८६)। °वइ पुं [°पति] गजेन्द्र, श्रेष्ठ हस्ती (एणया १, १८; सुपा २८६)। °वर पुं [°वर] प्रधान हाथी। °वरारि पुं [°वरारि] सिंह, शार्ङ्गल, वनराज (पउम १७, ७६)। °वहू वी [°वधू] हथिनी, हस्तिनी (पात्र)। °वीही वी [°वीथी] शुरु वगैरह महाग्रहों का चार-क्षेत्र-विशेष (ठा ६)। °ससण पुं [°श्वसन] हाथी की सूँड़ (श्रौप)। °सुकुमाल पुं [°सुकुमाल] एक प्रसिद्ध जैन मुनि, उसी भव में मुक्ति-गत जैन साधु-विशेष (अंत, पडि)। °रि पुं [°रि] सिंह, पञ्चानन (मवि)। °रोह पुं [°रोह] हस्तिपक, महावत (पात्र)।

गय पुं [गद] रोग, विमारी (श्रौप; सुपा ५७८)।

गयंक पुं [गजाङ्क] देवों की एक जाति, विक्रुमार देव (श्रौप)।

गयंद पुं [गजेन्द्र] श्रेष्ठ हाथी (गउड)।

गयकंठ पुं [गजकण्ठ] रत्न-विशेष (राय ६७)।

गयकन्न पुं [गजकर्ण] अनायं देश-विशेष (पव २७७)।

गयगपय न [गजाप्रपद] दशाणुकूट का एक तीर्थ (आचानि ३३२)।

गयण न [गगन] 'ह' अक्षर (सिदि १६६)।

°मणि पुं [°मणि] सूर्य (कुप्र ५१)।

गयण न [गगन] गगन, आकाश, अम्बर (हे २, १६४; गउड)। °गइ पुं [°गति] एक राजकुमार (दंस)। °चर वि [°चर] आकाश में चलनेवाला, पक्षी, विद्यावर वगैरह (सुपा २५०)। °मंडल पुं [°मण्डल] एक राजा (दंस)।

गयणरइ पुं [°दे] मेघ, मेह, बादल (दे २, ८८)।

गयणिहु पुं [गगनेन्दु] विद्यावर वंश के एक राजा का नाम (पउम ५, ४५),

गयनिमीलिआ वी [गजनिमीलिका] उपेक्षा, उदासीनता (स ५१)।

गयमुह पुं [गजमुख] अनायं देश-विशेष (पव २७४)।

गयसाउल } वि [दे] विरक्त, वैरागी (दे गयसाउल्ल) ८७; पङ्)।

गया वी [गदा] लोहे का या पापाण का अक्ष-विशेष, लोहे का मुगदर या लाठी (राय)।

°हर पुं [°धर] वासुदेव; (उत्त ११)।

गया वी [गदा] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३३)।

गयां वी [गया] स्वनाम-प्रसिद्ध नगर-विशेष (उप २५१)।

°गर वि [°कर] करनेवाला, कर्ता (सण)।

गर पुं [गर] १ विप-विशेष, एक प्रकार का जहर (निच १)। २ ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध क्वादि करणों में से एक (विते ३३४८)।

°गरण देखो करण (सण ६३)।

गरल न [गरल] १ विप, जहर (पात्र प्रासू ३६)। २ रहस्य। ३ वि. अव्यक्त, अस्पष्ट;

'अ-गरलाए अ-मम्मणाए' (श्रौप)।

गरलिगावद्ध वि [गरलिकावद्ध] निक्षिप्त, उपन्यस्त (निच १)।

गरह सक [गह] निन्दा करना, घृणा करना। गरहइ, गरहह (भग)। वहू. गरहंत (द्र १५)। कवहू. गरहिज्जामाण (एणया १, ८)। संहू. गरहिज्जा (आचा २, १५)। हेहू. गरहित्तए (कस; ठा २, १)। कू. गरहिज्जिज्ज, गरहणीय, गरहियव्व (सुपा १८४; ३७६; परह २, १)।

गरहण न [गहण] निन्दा, घृणा (पि १३२)।

गरहणया } वी [गहणा] निन्दा, घृणा (भग गरहणा) १७, ३; श्रौप; परह २, १)।

गरहा वी [गहा] निन्दा, घृणा (भग)।

गरहिअ वि [गहित] निन्दित, घृणित (सं ६३; द्र ३३; सण)।

°गरिअ वि [कृत] किया हुआ, निमित्त (दे ७, ११)।

गरिइ वि [गरिष्ठ] अति गुह, बड़ा भारी (सुपा १०; १२८; प्रासू १५४)।

गरिम पुं वी [गरिमन्] गुल्ता, गुल्ब, गौरव (हे १, ३५; सुपा २३; १०६)।

गरिह देखो गरह । गरिहइ, गरिहामि (महाः पडि) ।

गरिह पुं [गर्ह] निन्दा, गर्हा (प्राप्र) ।

गरिहणया देखो गरहणया (उत्त २६, १) ।

गरिहा स्त्री [गर्हा] निन्दा, घृणा, जुगुप्सा (श्रीघ ७६१; स १६०) ।

गरु देखो गुरुः 'गुरुयगत्याए खिविक्कण' (सुपा २१४) ।

गरुअ वि [गुरुक] गुरु, बड़ा, महान (हि १, १०६; प्राप्र; प्रासू ३६) ।

गरुअ सक [गुरुकारय] गुरु करना, बड़ा बनाना । गलएइ (पि १२३);

'हांसाण सरेहि सिरी, सारिजेइ

अह सराण हंसेहि ।

अएणाएणं चित्र एए,

अप्पाणं एवर गह्वरति' (हेका २५५) ।

गरुआ } अक [गुरुकारय] १ बड़ा  
गरुआअ } बनना । बड़े की तरह आचरण

करना । गरुआइ, गरुआइइ (हे ३, १३८) ।  
गरुइअ वि [गुरुकृत] बड़ा किया हुआ (से ६, २०; गरुड) ।

गरुई } स्त्री [गुर्या] बड़ी, ज्येष्ठा, महती  
गरुगी } (हे १, १०७; प्राप्र; निचू १) ।

गरुक देखो गरुअः 'एवजोव्वणएरुपसाहिणा सिगारुणगरुकनेण' (प्राप्र) ।

गरुड देखो गरुल (संति १; स २६५; पिग) ।  
द्वन्द्व-विशेष (पिग) । 'त्य न [अ] अत्र-  
विशेष, उरगात्र का प्रतिपत्नी अत्र (पउम १२,  
१३०; ७१, ६६) । 'द्वय पुं [ध्वज]  
विष्णु, वासुदेव (पउम ६१, ५७) । 'वूह पुं  
[व्यूह] सेना की एक प्रकार की रचना  
(महा; पि २४०) ।

गरुडक पुं [गरुडाङ्क] १ विष्णु, वासुदेव ।  
२ इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम (पउम  
५, ७) ।

गरुल पुं [गरुड] एक देव-विमान (देवेन्द्र  
१३४) ।

गरुल पुं [गरुड] १ पक्षि-राज, पक्षि-विशेष  
(परह १, १) । २ यक्ष-विशेष, भगवान्  
शान्तिनाथ का शासन-यक्ष (संति ८) । ३  
भवनपति देवों की एक जाति, सुपर्णकुमार  
३७

देव (परह १, ४) । ४ सुपर्णकुमार देवों का  
इन्द्र (सुप्र १, ६) । 'केउ पुं [केतु] देखो  
'उभय (राज) । 'उभय, 'द्वय पुं [ध्वज]  
१ गरुड पक्षी के चित्रवाली ध्वजा (राय) ।  
२ वासुदेव, कृष्ण । ३ देव-जाति-विशेष,  
सुपर्णकुमार देव (आवम; सम; पि) । 'व्यूह  
देखो गरुड-व्यूह (जं २), 'सत्य न [शस्त्र]  
गरुडात्र, अत्र-विशेष (महा) । 'सण न  
[सण] आसन-विशेष (राय) । 'ववाय  
न [पपात] शास्त्र-विशेष, जिसको याद  
करने से गरुडदेव प्रत्यक्ष होते हैं (ठा १०) ।  
देखो गरुड ।

गरुवी देखो गरुई (कुमा) ।

गल अक [गल्] १ गल जाना, सड़ना । २  
खतम होना, समाप्त होना । ३ झरना, टप-  
कना, गिरना । ४ पिघलना, नरम होना ।  
५ सक, गिराना, टपकाना; 'जाव रत्ती गलइ'  
(महा) । वक्र. 'नवेण रस-सोएहि गलंतम्  
अमुइरसं' (महा; सुर ४, ६८; सुपा २०४) ।  
गलित (परह १; ३; प्रासू ७२) । प्रयो.,  
वक्र. गलावेमाण (एयाया १, १२) ।

गल } पुं [गल] १ गला, ग्रीवा, कण्ठ  
गलअ } (सुपा ३३; पोअ) । २ बडिअ, बंसी,  
मछली पकड़ने का कांटा (उप १८८; विपा १;  
८; सुर ८, १४०) । 'गल्लि स्त्री [गल्लि]  
गले की गर्जना (महा) । 'गल्लिय न  
[गल्लित] गल-गर्जन (महा) । 'लाय वि  
[लाय] गले में लगाया हुआ, कण्ठ-न्यस्त  
(श्रीघ) ।

गलई स्त्री [गलकी] वनस्पति-विशेष (राज) ।  
गलग देखो गलअ (परह १, १) ।

गलत्य देखो खिच । गलत्यइ (हे ४, १४३;  
भवि) ।

गलत्यण न [क्षेपण] १ क्षेपण करना, फेंकना ।  
२ प्रेरण (से ५, ५३; सुपा २८) ।

गलत्यलिअ वि [दे] १ क्षिप्त, फेंका हुआ ।  
२ प्रेरित (दे २, ८७) ।

गलत्यल्ल पुं [दे] गलहस्त, हाथ से गला पक-  
ड़ना (एयाया १, ६; परह १, ३—पत्र ५३) ।

गलत्यलिअ [दे] देखो गलत्यलिअ (से ५,  
४३; ८, ६१) ।

गलत्या स्त्री [दे] प्रेरणाः

'गल्याणं चिय भुवणम्मि आवया

न उए हुंति लहुयाए ।

गहकल्लोलगलत्या, ससिसुराणं न ताराणं'  
(उप ७२८ टी) ।

गलत्थिअ वि [क्षिप्त] १ प्रेरित (सुपा  
६३५) । २ फेंका हुआ (दे २, ८७; कुमा) ।  
३ बाहर निकाला हुआ (पाअ) ।

गलद्वअ पुं [दे] प्रेरित, क्षिप्त (पड्) ।

गलहत्थिअ वि [गलहस्तिअ] गला पकड़कर  
बाहर निकाला हुआ (वजा १३८) ।

गलाण देखो गिलाण (नाट—चैत ३४) ।

गलि देखो गल = गल; 'मच्छुव्व गलि गिलित्ता'  
(दसचू १, ६) ।

गलि } वि [गलि, 'क] दुर्विनीत, दुर्दम  
गलिअ } (श्रा १२; सुपा २७६) । 'गइह  
पुं [गर्दभ] अर्विनीत गदहा (उत्त २७) ।  
'वइल्ल पुं [वलीवर्द] दुर्विनीत वैल (कप्प) ।  
'स्स पुं [श्व] दुर्दम घोड़ा (उत्त १) ।

गलिअ वि [गलित] १ गला हुआ, पिघला  
हुआ (कप्प) । २ क्षालित, प्रक्षालित (कुमा) ।  
३ स्वलित, पतित (से १, २) । ४ नष्ट, नाश-  
प्राप्त (सुपा २४३; सए) ।

गलिअ वि [दे] स्मृत, याद किया हुआ (दे  
२, ८१) ।

गलित देखो गल = गल् ।

गलिच वि [गलीय, गल्य] गले का (पिड  
४२४) ।

गलिर वि [गलित्] निरन्तर पिघलता, टप-  
कता; 'बहुसोगगलिरनयणी' (श्रा १४) ।

गलुल देखो गरुल (अचू १; पड्) ।

गलोई } स्त्री [गुड्डी] बल्ली-विशेष,  
गलोया } गिलीय, गुरुच (हे १, १२४; जी  
१०) ।

गल्ल पुं [गल्ल] १ गाल, कपोल (दे २, ८१;  
उवा) । २ हाथी का गण्ड-स्यल, कुम्भ-स्यल  
(पड्) । 'मसूरिया स्त्री [मसूरिका]  
गाल का उपधान (जीत) ।

गल्लक पुंन [दे] १ स्फटिक मणि (प्राप्र; पि  
२६६) ।

गह्वर्य देखो गलत्य । गल्लत्यइ (पड्) ।

गहृफोड पुं [दे] डमरुक, वायु-विशेष (दे २, ८६)।

गहृलक्षण न [दे] मांस खाते हुए कुपित शेर की गर्जना (माल ६०)।

गहृलोल न [दे] गडुक, पात्र-विशेष (निचू १)।

गव पुं [गो] पशु, जानवर (सूय १, २, ३)।

गवकव पुं [गवाक] १ गवाक्ष, वातायन, करोखा (श्रीप; परह २, ४)। २ गवाक्ष के आकृति का रत्न-विशेष (जीव ३)। °जाल न [°जाल] १ रत्न-विशेष का ढेर (जीव ३; राय)। २ जालीवाला वातायन (श्रीप)।

गवच्छ पुं [दे] आच्छादन, ढकना (राय)।

गवच्छिय वि [दे] आच्छादित, ढका हुआ (राय; जीव ३)।

गवत्त न [दे] घास, तुण (दे २, ८५)।

गवत्त्रिय देखो गवच्छिय (पउमच० ४१—५)।

गवय पुं [गवय] गो की आकृति का जंगली पशु-विशेष, नील गाय (परह १, १)।

गवर पुं [दे] वनस्पति-विशेष (परह १—पत्र ३४)।

गवल पुं [गवल] १ जंगली पशु-विशेष, जंगली महिष (पउम ८८, ६)। २ न. महिष का सिंग (परह १७; सुपा ६२)।

गवा झी [गो] गैया, गाय (पउम ८०, १३)।

गवाद्गी देखो गवायणी (आचा १, १०, २)।

गवायणी स्त्री [गवायनी] गोचर-भूमि (दे २, ८२)।

गवार वि [दे] गँवार, छोटे गाव का निवासी (वजा ४)।

गवााल्य न [गवालीक] गौ के विषय में अनृत भाषण (परह १, २)।

गविअ वि [दे] अवघृत, निश्चित (पड्)।

गविट्ट वि [गवेपित] खोजा हुआ (सुपा १५४; ६४०; स ४८४; पात्र)।

गविल न [दे] उत्तम कोटि की चीनी, शुद्ध मिर्ची (उर ५, ६)।

गवेधुआ स्त्री [गवेधुका] जैनमुनि-गण की एक शाखा (कप)।

गवेलग पुं [गवेलक] १ मेप, भेड़ (राया १, १; श्रीप)। २ गौ और भेड़ (डा ७)।

गवेस सक [गवेपय्] गवेषणा करना, खोजना, तलाश करना। गवेसद (महा; पड्)।

भूका. गवेसिवा (आचा)। वक्र. गवेसत, गवेसयंत, गवेसमाण (आ १२, सुपा ४१०; मुर १, २०२; राया १, ४)। हेक. गवे-

सिचए (कप)।

गवेसइत्तु वि [गवेपयित्] खोज करनेवाला, गवेपक (डा ४, २)।

गवेसग वि [गवेपक] ऊपर देखो (उप पृ ३३)।

गवेसण न [गवेपण] खोज, अन्वेषण (श्रीप; मुर ४, १४३)।

गवेसणया स्त्री [गवेपणा] ईहा-ज्ञान, संभावना-ज्ञान (एदि १७६)।

गवेसणया } स्त्री [गवेपणा] १ खोज, अन्वेषण, गवेसणा } ण (श्रीप; सुपा २३३)। २ शुद्ध निष्ठा की याचना (श्रीप ३)। ३ निष्ठा का ग्रहण (डा ३, ४)।

गवेसय देखो गवेसग (नवि)।

गवेसाविय वि [गवेपित] १ दूसरे से खोज-वाया हुआ, दूसरे द्वारा खोज किया गया (स २०७; श्रीप ६२२ टी)। २ गवेपित, अन्वेषित, खोजा हुआ (स ६८)।

गवेसि वि [गवेपिन्] खोज करनेवाला, गवेपक (पुष्क ४४०)।

गवेसिअ वि [गवेपित] अन्वेषित, खोजा हुआ (मुर १५, १२६)।

गव्य पुं [गर्व] मान, अहंकार, अभिमान (भग १५; पव २१६)।

गव्यर न [गह्वर] कोटर, गुहा (स ३६३)।

गव्यि वि [गर्विन्] अभिमानो, गर्व-युक्त (आ १२; दे ७, ६१)।

गव्यिट्ट वि [गर्विट्ट] विशेष अभिमानो, गर्व करनेवाला (दे १, १२८)।

गव्यिय वि [गर्वित] गर्व-युक्त, जिसको अभिमान उत्पन्न हुआ हो वह (पात्र; सुपा २७०)।

गव्यिर वि [गर्विन्] अहंकारी, अभिमानो (हे २, १५६; हेका ४५)। स्त्री. °री (हेका ४५)।

गसं सक [गस] खाना, निगलना, भक्षण करना। गसद (हे ४, २०४; पड्)। वक्र.

गसंत (उप ३२० टी)।

गसण न [गसन] भक्षण, निगलना (ग ३५७)।

गसिअ वि [गसत] भक्षित, निगलित (कुमा; मुर ६, ६०; सुपा ४८६)।

गह सक [गह्य] गुंथना, गठना। गहेति (सुमनि १४०)।

गह सक [ग्रह] १ ग्रहण करना, लेना। २ जानना। गहेत् (सण)। वक्र. गहंत (आ २७)। संक्र. गहाय, गहिय, गहियण, गहिया, गहियं (पि ५६१; नाट; वि ५८६; सूत्र १, ४, १; १, ५, २)। क. गहीश्रव्य, गहेश्रव्य (रण ७०; नग)।

गह पुं [ग्रह] १ ग्रहण, प्राप्त, स्वीकार (विसे ३७१; मुर ३, ६२)। २ सूर्य, चंद्र वगैरह ज्योतिष्क-द्वय (गउड; परह १, २)। ३ कर्म का बन्ध (दस ४)। ४ भूत वगैरह का प्राक्रमण, आवेश (कुमा; मुर २, १४४)। ५ गति, आसक्ति, तल्लोभता (आचा)। ६ संगीत का रत्न-विशेष (दस २)। °लोभ पुं [°लोभ] राक्षस वंश के एक राजा का नाम, एक लंकेश (पउम ५, २६६)। °गजिय न [°गजित] यहाँ के संचार से हुंनिवाली आवाज (जीव ३)। °गहिय वि [°गहीत] भूतादि से आक्रान्त, पागल (कुमा; मुर २, १४४)। °चरिय न [°चरित] १ ज्योतिष-शास्त्र (वव ४)। २ ज्योतिष-शास्त्र का परिज्ञान (सम ८३)। °दंड पुं [°दण्ड] दरडाकार ग्रह-पंक्ति (भग ३, ७)। °नाह पुं [°नाथ] १ सूर्य, सूरज (आ २८)। २ चन्द्र, चन्द्रमा (उप ७२८ टी)। °मुसल न [°मुसल] मुसलाकार ग्रह-पंक्ति (जीव ३)। °सियाडग न [°श्रुजाटक] १ पानी-फल के आकार-वाली ग्रह-पंक्ति (भग ३, ७)। २ ग्रह-युग्म, ग्रह की जोड़ी (जीव ३)। °हिय पुं [°धिप] सूर्य, सूरज (आ २८)।

गह पुं [ग्रह] १ संबंध (धर्मसं ३६३)। २ पकड़, धरना (सूत्र १, ३, २, ११; धर्मवि ७२)। ३ ग्रहण, ज्ञान (धर्मसं ३३६४)। °भिन्न न [°भिन्न] जिसके बीच से ग्रह का गमन हो वह नक्षत्र (वव १)। °सम न [°सम] गेय काव्य का एक भेद (दसनि २, २३)।

गहं न [गृह] घर, मकान । °वइ पुं [°पति] गहस्य, गृही, संसारी (पउम २०, ११६; प्राप्र) । °वइणी वी [°पत्नी] गृहिणी, वी (सुपा २२६) ।  
 गहकलोल पुं [दे. ग्रहकलोल] राहु, ग्रह-विशेष (दे २, ८६; पात्र) ।  
 गहगह अक [दे] हर्ष से भर जाना, आनन्द-पूर्ण होना । गहगहइ (भवि) ।  
 गहण न [ग्रहण] १. आदान, स्वीकार (से ४, ३३; प्रासू १४) । २. आदर, सम्मान । ३. ज्ञान, श्रवबोध (से ४, ३३) । ४. शब्द, आवाज (आचा २, ३, ३; आवम) । ५. वि. ग्रहण करनेवाला । ६. न. इन्द्रिय (विसे १७०७) । ७. चन्द्र-सूर्य का उपराग—ग्रहण (भग १२, ६) । ८. वि. ग्राह्य, जिसका ग्रहण किया जाय वह (उत्त ३२) । ९. न. शिक्षा-विशेष (आव) ।  
 गहण न [आहण] ग्रहण कराना, अंगीकार कराना; 'जो आसि वंभवेरगहणयुल' (कुमा) ।  
 गहण न [ग्रहण] १. आदान का कारण । २. आक्षेपक, 'चक्रवुस्त खवं गहणं वर्यति' (उत्त ३२, २२) ।  
 गहण न [ग्रहण] अरण्य-क्षेत्र (आचा २, ३, ३, १) । °विदुग्ग न [°विदुर्ग] पर्वत के एक प्रदेश में स्थित वृक्ष-वल्ली-समुदाय (सूत्र २, २, ८) ।  
 गहण वि [ग्रहण] १. निविड़, दुभेंच, दुगंम; 'काले अण्णइण्हणे जोणीगहणम्मि भीसणे इत्य' (जी ४६); 'फलसारणलिण्णगहणा' (गउड) । २. वन, झाड़ी, घना कानन (पात्र; भग) । ३. वृक्ष-गह्वर, वृक्ष का कोटर (विपा १, ३—पत्र ४६) ।  
 गहण न [दे] १. निर्जल-स्थान, जल-रहित प्रदेश (दे २, ८२; आचा २, ३, ३) । २. वक्क, धरोहर, गिरवी (सुपा ५४८) ।  
 गहणय न [दे] गहना, आभूषण (सुपा १५४) ।  
 गहणया वी [ग्रहण] ग्रहण, स्वीकार, उपादान (औप) ।  
 गहणी वी [ग्रहणी] गुदाशय, गांड (परह १, ४; औप) ।

गहणी वी [ग्रहणी] कुक्षि, पेट (पव १०६) ।  
 गहणी वी [दे] जवरदस्ती हरण की हुई वी, बांदा या वंदी (दे २, ८४; से ६, ४७) ।  
 गहत्थि पुं [गभस्ति] किरण, दिव् (पात्र) ।  
 गहर पुं [दे] गृत्र, गीव-पक्षी (दे २, ८४; पात्र) ।  
 गहर पुंन [ग्रहर] १. निकुंज । २. वन, जंगल । ३. दंभ, कपट । विपम-स्थान । ५. रोदन । ६. गुफा । ७. अनेक अनर्थों का संकट; 'गहरो' (प्राक २४) ।  
 गहवइ पुं [गृहपति] कृपक, खेतो करनेवाला (पात्र) ।  
 गहवइ वि [दे] १. ग्रामीण, गाँव का रहनेवाला (दे २, १००) । २. पुं. चन्द्रमा, चाँद (दे २, १००; पात्र; वात्र १५) ।  
 गहिअ वि [दे] वक्रित, मोड़ा हुआ, टेढ़ा, किया हुआ (दे २, ८५) ।  
 गहिअ वि [गृहीत] १. उपात्त, स्वीकृत (औप; ठा ४, ४) । २. पकड़ा हुआ (परह १, ३) । ३. ज्ञात, उपलब्ध, विदित (उत्त २; पड्) ।  
 गहिअ वि [गृह] आसक्त, तल्लीन (आचा) ।  
 गहिआ वी [दे] १. काम-भोग के लिए जिसकी प्रार्थना की जाती हो वह वी (दे २, ८५) । २. ग्रहण करने योग्य वी (पड्) ।  
 गहिर वि [गभीर] गहरा, गम्भीर, अस्ताव (दे १, १०१; काप्र ६२५; कप्प; गउड; औप; प्राप्र) ।  
 गहिल-वि [ग्रहिल] भूतादि से आविष्ट, पागल (आ १४) ।  
 गहिलिय-वि [दे. ग्रहिल] आवेश-युक्त, गहिल पागल, भ्रान्त-चित्त (पउम ११३, ४३; पड्; आ १२; उप ५६७ टी; भवि) ।  
 गहीअ देखो गहिअ = गृहीत (आ १२; स्पण ६८) ।  
 गहीर देखो गभीर (प्रासू ६) ।  
 गहीरिअ न [गभीर्य] गहराई, गम्भीरपन (हे २, १०७) ।  
 गहीरिम पुंवी [गभीरिसन्] गहराई, गम्भीरता (हे ४, ४१६) ।  
 गहेअव्व } देखो गह = ग्रह ।  
 गहेउं }

गहण (अप) देखो गह = ग्रह । गहइ (पड्) ।  
 गा } सक [गै] १. गाना, आलापना । २. गाअ } वर्यन करना । ३. श्लाघा करना ।  
 गाइ, गाअइ (हे ४, ६) । वक्क. गंत, गाअंत, गायमाण (गा ५४६; पि ४७६; पउम ६४, २४) । कवक्क. गिजंत (गउड; गा ६४२; सुपा २१; सुर ३, ७६) । संक्क, गाइउं (महा) ।  
 गाअ पुं [गो] वैल, वृषभ, साँड़ (हे १, १५८) ।  
 गाअ न [गात्र] १. शरीर, देह (सम ६०) । २. शरीर का अवयव (औप) ।  
 गाअ वि [गायक] गानेवाला (कुमा) ।  
 गाअंक पुं [गवाङ्क] महादेव, शिव (कुमा) ।  
 गाअण वि [गायन] गानेवाला, गवैया (सुपा ५५; सण) ।  
 गाइअ वि [गीत] १. गायी हुआ, 'किन्नरेण तो गाइयं गीयं' (सुपा १६) । २. न. गीत, गान, गाना (आव ४) ।  
 गाइआ वी [गायिका] गानेवाली वी (गा ६४४) ।  
 गाइर वि [गायक] गानेवाला, गवैया (सुपा ५४) ।  
 गाई वी [गो] गैया, गौ (हे १, १५८; दे ४, १८; गा २७१; सुर ७, ६५) ।  
 गाउ } न [गव्यूत] १. कोस, क्रोश, वो गाउअ } हजार धनुष-प्रमाण जमीन (पि गाऊअ २५४; औप; इक जी १८; विसे ८२ टी) । २. दो कोस, क्रोश-युग्म (औप १२) ।  
 गागर पुं [दे] वी को पहनने का वल-विशेष, लहंगा, घँघरा या बाँधरा; गुजराती में 'बाघरो' (परह १, ४) । २. मत्स्य-विशेष (परण १) ।  
 गागरी [दे] देखो गायरी (पि ६२) ।  
 गागलि पुं [गागलि] एक जैनमुनि (उत्त १०) ।  
 गागेज्ज वि [दे] मथित, मया हुआ, आलो-डित (दे २, ८८) ।  
 गागेज्जा वी [दे] नवोढ़ा, दुलहिन (दे २, ८८) ।  
 गाडिअ वि [दे] विधुर, वियुक्त (दे २, ८३) ।

गाढ वि [गाढ] १ गाढ़, निविड़, सान्द्र (पात्र; सुर १७, ४८)। २ मजवूत, दृढ़ (सुर ४, २३७)। ३ क्रि. अत्यन्त, अतिशय (कप्य)।  
 गाण न [गान] गीत, गाना (हे ४, ६)।  
 गाण वि [गायन] गवैया, गीत-प्रवीण (दे २, १०८)।  
 गाणगणिअ पुं [गाणङ्गणिक] छः ही मास के भीतर एक साधु-गण से दूसरे गण में जानेवाला साधु (बृह १)।  
 गाणी स्त्री [दे] गदादनी, गोचर-भूमि (दे २, ८२)।  
 गाथा देखो गाहा (भगः पिंग)।  
 गाथ वि [गाथ] अस्ताव-रहित, कम गहरा (दे ५, २४)।  
 गाम पुं [ग्राम] १ समूह, निकर; 'चबलो इंदियगामो' (सुर २, १३८)। २ प्राणि-समूह, जन्तु-निकर (विसे २८६६)। ३ गाँव, वसति, ग्राम (कप्य; राया १, १८; औप)। ४ इन्द्रिय-समूह (भगः औप)। ५ 'कंडगा, कंडय पुं [कण्टक] १ इन्द्रिय-समूह रूप कांटा (भगः औप)। २ दुर्जनों का रूढ़ आलाप, गाली (आचा)। ३ 'वायग वि [घातक] गाँव का नाश करनेवाला (परह १, ३)। ४ 'गिद्धमण न [निर्धमन] गाँव का पानी जाने का रास्ता, नाला (कप्य)। ५ 'धम्म पुं [धर्म] १ विषयाभिलाष, विषय की वाञ्छा (ठा १०)। २ इन्द्रियों का स्वभाव। ३ विषय-प्रवृत्ति (आचा)। ४ मैथुन (सूत्र १, २, २)। ५ शब्द, रूप वगैरह इन्द्रियों का विषय (परह १, ४)। ६ गाँव का धर्म, गाँव का कर्तव्य (ठा १०)। ७ 'द्र पुं [ार्थ] आवा गाँव। २ उत्तर भारत, भारत का उत्तरप्रदेश (निचू १२)। ८ 'मारी स्त्री [मारी] गाँव भर में फैली हुई बीमारी-विशेष (जोब ३)। ९ 'रोग पुं [रोग] ग्राम-व्यापक बीमारी (जं २)। १० 'वइ पुं [पति] गाँव का मुखिया (पात्र)। ११ 'णुगाम न [नुग्राम] एक गाँव से दूसरे गाँव (औप)। १२ 'चार पुं [चार] विषय (आचम)।  
 गामउड } पुं [दे] गाँव का मुखिया (दे २, गामऊड } ८६; बृह ३)।  
 गामंतिय न [ग्रामान्तिक] १ गाँव की सीमा

(आचा)। २ वि. गाँव की सीमा में रहनेवाला (दसा ?)। ३ पुं. जैनेतर दार्शनिक-विशेष (सूत्र २, २)।  
 गामगोह पुं [दे] गाँव का मुखिया (दे २, ८६)।  
 गामड पुं [ग्रामक] गाँव, छोटा गाँव (आ १६)।  
 गामण न [दे. गमन] भूमि में गमन, भू-संपर्ण (भग ११, ११)।  
 गामणह न [दे] ग्राम-स्वान, ग्राम-प्रदेश (पड्)।  
 गामणि देखो गामगी (दे २, ८६; पड्)।  
 गामणिसुअ पुं [दे] गाँव का मुखिया (दे २, ८६)।  
 गामणी पुं [दे] गाँव का मुखिया (दे २, ८६; ग्रामा)।  
 गामणी वि [ग्रामगी] १ श्रेष्ठ, प्रधान, नायक (से ७, ६०, घण १; ना ४४६; पड्)। २ पुं. तृण-विशेष (दे २, ११२)।  
 गामपिंडोला पुं [दे] भोज से पेट भरने के लिये गाँव का आश्रय लेनेवाला भोजारी (आचा)।  
 गामरोड पुं [दे] छल से गाँव का मुखिया वन बैठनेवाला, गाँव के लोगों में फूट उत्पन्न कर गाँव का मालिक होनेवाला (दे २, ६०)।  
 गामहण न [दे] ग्राम-स्वान, गाँव का प्रदेश (दे २, ६०)। २ छोटा गाँव (पात्र)।  
 गामाग पुं [ग्रामाक] ग्राम-विशेष, इस नाम का एक सन्निवेश (आचम)।  
 गामार वि [दे. ग्रामीण] ग्रामीण, छोटे गाँव का रहनेवाला (वजा ४)।  
 गामि वि [ग्रामिन्] जानेवाला (गा १६७; आचा)। स्त्री. 'णी (कप्य)।  
 गामिअ वि [ग्रामिक] १ देखो गामिह (दे २, १००)। २ ग्राम का मुखिया (निचू २)। ३ विषयाभिलाषी (आचा)।  
 गामिणिआ स्त्री [ग्रामिणिका] गमन करनेवाली स्त्री, 'ललिग्रहंसवहुगामिणिआहि' (प्रजि २६)।  
 गामिह } वि [ग्रामीण] गाँव का गामिल्लुअ } निवासी, गँवार; (पउम ७७, गामीण } १०८; विसे १ टी; दे ८, ४७)। स्त्री. 'ही (कुमा)।

गामुअ वि [ग्रामुक] जानेवाला (स १७५)।  
 गामेइआ स्त्री [ग्रामेयिका] गाँव की रहनेवाली स्त्री, गँवार स्त्री (गउड)।  
 गामेणी स्त्री [दे] छापी, अजा, वकरी (दे २, ८४)।  
 गामेय देखो गामेयग (धर्मवि १३७)।  
 गामेयग वि [ग्रामेयक] गाँव का निवासी, गँवार (बृह १)।  
 गामेरेड [दे] देखो गामरोड (पड्)।  
 गामेलुअ } देखो गामिह (मुच्छ २७५; गामेह } विषा १, १; विसे १४११)।  
 गामेस पुं [ग्रामेश] गाँव का अधिपति (दे २, ३७)।  
 गायण वि [गायन] गवैया, गायक (सिदि ७०१)।  
 गायरी स्त्री [दे] गंगरी, गंगरी, कलशी, छोटा घड़ा (दे २, ८६)।  
 'गार वि [कार] कारक, कर्ता (भवि)।  
 गार पुं [दे. प्रावन्] पत्थर, पापाण, कङ्कड़ (वव ४)।  
 गार न [अगार] गृह, घर, मकान (ठा ६)।  
 'स्थ पुं स्त्री [स्थ] गृहस्थ, गृही (निचू १)।  
 'स्थिय पुं स्त्री [स्थित] गृहस्थ, गृही, संसारी; 'गारस्थियजणउच्चियं भासासमिओ न भासिजा' (पुष्क १८१; ठा ६)।  
 'गारय वि [कारक] कर्ता, करनेवाला (स १५१)।  
 गारव पुं [गौरव] १ अभिमान, अहंकार। २ अभिलाष, लालसा; 'तथो गारवा परणत्ता' (ठा ३, ४; आ ३५; सम ८)। ३ महत्व, युक्त, प्रभाव (कुमा)। ४ आदर, सम्मान (पड्; प्राप्र)।  
 गारवित वि [गौरवित] १ गौरवान्वित, महत्त्वशाली। २ गर्वीला, अभिमानो। ३ लालासावाला, अभिलाषी (सूत्र १, १, १)।  
 गारविल वि [गौरवयत्] ऊपर देखो (कम्म १, ५६)।  
 गारहस्थ वि [गार्हस्थ] गृहस्थ-सम्बन्धी, गृहस्थ का (पव २३५)।  
 गारि पुं स्त्री [अगारिन्] गृही, संसारी, गृहस्थ (उत्त ५, १६)।

गारिहृथिय स्त्रीन [गार्हृथ्य] गृहस्य-संबन्धी, संसारि-संबन्धी। स्त्री: °या (पव २३५)।  
 गारुड } वि [गारुड] ? गृह-संबन्धी।  
 गारुड } २ सर्प के विष को उतारनेवाला, सर्प-विष को दूर करनेवाला। ३ पुं. सर्प विष को दूर करनेवाला मन्त्र (उप ६८६ टी; से १४, ५७)। ४ न. शास्त्र-विशेष, मन्त्र-शास्त्र-विशेष, सर्पविष-नाशक मन्त्र का जिसमें वर्णन हो वह शास्त्र (ठा ६)। °मंत पुं [°मन्त्र] सर्प-विष का नाशक मन्त्र (सुपा २१६)। °विउ वि [°वित्] गारुड मन्त्र का जानकार, गारुड शास्त्र का जानकार (उप ६८६ टी)।  
 गाल सक [गाल्य] ? गालना, छानना। २ नाश करना। ३ उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना। गालयइ (वित्से ६४)। वक्र. गालेमाण (भग ६, ३३)। क्वकृ. गालि-जंत (सुपा १७३) प्रयो. गालावेइ (खाया १, १२)।  
 गालण न [गालन] छालना, गालना (परह १, १; उप पृ ३७६)।  
 गालणा स्त्री [गालना] ? गालना, छानना। २ गिरवाना। ३ पिघलवाना (विपा १, १)।  
 गालवाहिया स्त्री [दे] छोटी नौका, डोंगी; 'एत्थंतरम्मि समागया गालवाहियाए निज्जामया' (स ३५१)।  
 गालि स्त्री [गालि] गाली, गारी, अपशब्द, असम्य वचन (सुपा ३७०)।  
 गालिय वि [गालित] ? छाना हुआ। २ अतिक्रमन्त। ३ विनाशित। ४ क्षिप्त; 'गालियमिठो निरंकुसो वियरिओ रायहृथ्यो' (महा)।  
 गाली स्त्री [गाली] देखो गालि (पव ३=)।  
 गाव (अप) देखो गा। गावइ (पिन)। वक्र. गावंत (पि २५४)।  
 गाव (अप) देखो गव्य (भवि)।  
 गाव वि [दे] गत, गया हुआ, पुजरा हुआ (पड्)।  
 गाव } पुं [गावन्] ? पत्थर, पापाण  
 गावाण } (पात्र)। २ पहाड़, गिरि (हे ३, ५६)।  
 गावि (अप) देखो गविय्य (भवि)।  
 गावी स्त्री [गो] गौ, गैया (हे २, १७४; विपा १, २; महा)।

गास पुं [ग्रास] ग्रास, कवल (सुपा ४८८)।  
 गास पुं [ग्रास] भोजन (पव ६५)।  
 गाह देखो गह = ग्रह। कर्म. गाहिजइ (प्राप्र)।  
 गाह सक [ग्राह्य] ग्रहण कराना। गाहेइ (श्रीप)।  
 गाह सक [गाह] ? गाहना, हँदना। २ पढ़ना, अभ्यास करना। ३ अनुभव करना। ४ टोह लगाना। गाहदि (शौ); (मृच्छ ७२)। क्वकृ. गाहिजंत (ववा ४)।  
 गाह पुं [गाध] अस्ताव-रहित, धाह (ठा ४, ४)।  
 गाह पुं [ग्राह] ? गाह, कुंभीर, नक्र, जल-जन्तु-विशेष, मगर (दे २, ८६; खाया १, ४; जी २०)। २ आग्रह, हठ (वित्से २६८६; पउम १६, १२)। ३ ग्रहण, आदान (निचू ?)। ४ गारुडिक, सर्प को पकड़नेवाली मनुष्य-जाति (वृह १)। °वई स्त्री [°वती] नदी-विशेष (ठा २, ३—पव ८०)।  
 गाहग वि [ग्राहक] ? ग्रहण करनेवाला, लेनेवाला (सुपा ११)। २ समझनेवाला, जाननेवाला (सुपा ३४३)। ३ समझनेवाला, शिक्षक, आचार्य, गुरु (श्रीप)। ४ ज्ञापक, बोधक। स्त्री. गाहिगा (श्रीप)।  
 गाहक वि [ग्राहक] प्राप्त करनेवाला, 'गाहगं सयलपुण्णाणं' (स ६८२)।  
 गाहण न [ग्राहण] ? ग्रहण कराना। २ ग्रहण, आदान; 'गाहण तवचरियस्सा गहणं चिय गाहणा हंति' (पंचमा)। ३ शास्त्र, सिद्धान्त (वव ४)। ४ बोधक-वचन, शिक्षा, उपदेश (परह २, २)।  
 गाहणया } स्त्री [ग्राहणा] ऊपर देखो (उप  
 गाहणा } पृ ३१४; आचा; गच्छ ?)।  
 गाह्य देखो गाहग (वित्से ८३१; स ४६८)।  
 गाहा स्त्री [गाथा] अव्ययन, ग्रन्थ-प्रकरण (उत्त ३१, १३)।  
 गाहा स्त्री [गाथा] ? छन्द-विशेष, आर्या, गोति (ठा ५, ३; अजि ३७; ३८)। २ प्रतिष्ठा। ३ निश्चय; 'सिसपयाण य गाहा' (आव ४)। ४ 'सूत्रकृतांणं सूत्र का सोलहवाँ अव्ययन (सूत्र १, १, १)।  
 गाहा स्त्री [दे] गृह, घर, मकान; 'गाहा घरं गिहमिति एगट्ठा' (वव ८)। °वई पुं स्त्री

[°पति] ? गृहस्य, गृही, संसारी (ठा ४, ४; सुपा २२६)। २ घनी, घनाढ्य (उत्त १)। ३ भंडारी, भारडागारिक (सम २७)। स्त्री: °णी (खाया १, ५; उवा)।  
 गाहाल पुं [ग्राहाल] कीट-विशेष, त्रीन्द्रिय जन्तु विशेष (जीव ?)।  
 गाहावई स्त्री [ग्राहावती] ? नदी-विशेष। २ द्वीप-विशेष। ३ हृद-विशेष, जहाँ से ग्राहावती नदी निकलती है (जं ४)।  
 गाहाविय वि [ग्राहित] जिसको ग्रहण कराया गया हो वह (सुर ११, १८३)।  
 गाहिणी स्त्री [गाहिनी] ? गाहने वाली स्त्री। २ छन्द-विशेष (पिग)।  
 गाहिपुर न [गाधिपुर] नगर-विशेष (गउड)।  
 गाहिय वि [ग्राहित] ? जिसको ग्रहण कराया गया हो वह। २ भ्रामित, उकसाया हुआ (सूत्र १, २, १)।  
 गाहीकय वि [गाथीकृत] एकवित्त, इकट्ठा किया हुआ (सूत्रनि १, १६)।  
 गाहु स्त्री [गाहु] छन्द-विशेष (पिग)।  
 गाहुलि पुं स्त्री [दे] ग्राह, नक्र, मगर, क्रूर जल-जन्तु विशेष (दे २, ८६)।  
 गाहुलिया देखो गाहा = गाया (सुपा २६४)।  
 गिंठि [गृष्टि] ? एक बार व्यायी हुई। २ एक बार व्यायी हुई गाय (हे १, २६)।  
 गिंधुअ [दे] देखो गेंठुअ (पात्र)।  
 गिंधुल्ल [दे] देखो गेंठुल्ल (पात्र)।  
 गिंभ (अप) देखो गिंभ (हे ४, ४४२)।  
 गिंह देखो गिंभ (पड्)।  
 गिजंत देखो गा।  
 गिज्झ अक [गृध्] आसक्त होना, लम्पट होना। गिज्झइ (हे ४, २१७)। गिज्झइ (खाया १, ८)। वक्र. गिज्झंत (श्रीप)। कृ. गिज्झियव (परह २, ५)।  
 गिज्झ वि [गृध्, ग्राह्य] ? ग्रहण करने योग्य। २ अपनी तरफ में किया जा सके ऐसा (ठा ३, २)।  
 गिट्ठि देखो गिंठि; 'वारंत्तस्सवि वला दिट्ठो गिट्ठिव्व जवसम्मि' (उप ७२८ टी; पात्र; गा ६४०)।  
 गिड्डिया स्त्री [दे] गेड़ी, गेंद खेलने की लकड़ी (पव ३८)।



गिण देखो गण = गणय् । गिणति (सङ्घि ६७) ।

गिण्ह देखो गह = गह् । गिण्हइ (कप्प) । वक्क. गिण्हंत, गिण्हमाण (सुपा ६१६; णाय्या १, १) । संक. गिण्हइ, गिण्हिऊण, गिण्हित्ता (पि ५७४; ५८५; ५८२) । हेक. गिण्हित्तए (कप्प) । क. गिण्हियव्व, गिण्हियव्व (अणु; सुपा ५१३) ।

गिण्हण देखो गहण = ग्रहण (चिरि ३४७; पिड ४५६; तंडु ५०) ।

गिण्हणा स्त्री [ग्रहण] उपादान, आदान (उत्त १६, २७) ।

गिण्हविअ वि [आहित] ग्रहण कराया हुआ (वर्मवि ११६) ।

गिद्ध पुं [गुध्र] पक्षि-विशेष, गोघ (पात्र; णाय्या १; १६) ।

गिद्ध वि [गुध्र] आसक्त, लम्पट, लोलुप (परह १, २; आच ३) ।

गिद्धपिट्ठ न [गुध्र स्पृष्ट, गुध्रपृष्ट] मरण-विशेष, आत्महत्या के अभिप्राय से गोघ आदि को अपना शरीर खिला देना (पव १५७) ।

गिद्धि स्त्री [गुद्धि] एक देव-विमान (दिवेन्द्र १३४) ।

गिद्धि स्त्री [गुद्धि] आसक्ति, लम्पटता, गाव्यं (सूत्र १, ६) ।

गिन्हणा देखो गिण्हणा (उत्त १६, २७) ।

गिह्व पुं [ग्रीधम] ऋतु-विशेष, गरमी का मौसिम (हे २, ७४; प्राप्र) ।

गिह्वा स्त्री, देखो गिह्वः 'गिह्वासु' (सुत्र २, ३७) ।

गिर सक [गृ] १ बोलना, उच्चारण करना । २ गिलना, निगलना । गिरइ (पड्) ।

गिरा स्त्री [गिर] बाणी, भाषा, वाक् (हे १, १६) ।

गिरि पुं [गिरि] १ पहाड़, पर्वत (गउड; १, २३) । २ अडी स्त्री [तटी] पर्वतीय नदी (गउड) । ३ कृष्णई, कृष्णी स्त्री [कर्णी] बल्की-विशेष, लता-विशेष (परएण १—पत्र ३३; आ २०) । ४ कूड न [कूट] १ पर्वत का शिखर । २ पुं. रामचन्द्र का महल (पउम ८०, ४) । ३ जण. पुं. [यड्]

कोंकण देश में वर्षाकाल में किया जाता एक प्रकार का उत्सव (बह १) । ४ गई स्त्री [नदी] पर्वतीय नदी (पि ३८५) । ५ णाल पुं [नार] प्रसिद्ध पर्वत-विशेष, जो काठियावाड़ में आजकल भी 'गिरनार' के नाम से विख्यात है (श्री ३) । ६ दारिणी स्त्री [दारिणी] विद्या-विशेष (पउम ७, १३६) । ७ नई देखो गई (सुपा ६३५) । ८ पक्खंदण न [प्रस्कन्दन] पहाड़ पर से गिरना (निद्ध ११) । ९ यडय न [कटक] पर्वत का मध्य भाग (गउड) । १० पठभार पुं [प्राग्भार] पर्वत-नितम्ब (संवा) । ११ राय पुं [राज] मेरु पर्वत (इक) । १२ वर पुं [वर] प्रधान पर्वत, उत्तम पहाड़ (सुपा १७६) । १३ वरिद पुं [वरेन्द्र] मेरु पर्वत (आ २७) । सुआ स्त्री [सुता] पार्वती, गौरी (पिग) ।

गिरि पुं [दे] वीज-कोश (दे ६, १४८) ।

गिरिद पुं [गिरीन्द्र] १ श्रेष्ठ पर्वत । २ मेरु पर्वत । ३ हिमाचल (कप्प) ।

गिरिकर्त्री देखो गिरि-कृष्णी (पव ४) ।

गिरिडी स्त्री [दे] पशुओं के दांत को बांधने का उपकरण-विशेष; 'दंतगिरिडी पर्ववड' (सुपा २३७) ।

गिरिनयर न [गिरिनगर] गिरनार पर्वत के नीचे का नगर, जो आजकल 'जूनानगड' के नाम से प्रसिद्ध है (कुप्र १७६) ।

गिरिफुल्लिय न [गिरिपुष्पित] नगर-विशेष (पिड ४६१) ।

गिरिस पुं [गिरिश] महादेश, शिव (पात्र; दे, ६, १२१) । २ वास पुं [वास] कैलाश पर्वत (से ६, ७५) ।

गिरीस पुं [गिरीश] १ हिमालय पर्वत । २ महादेव, शिव (पिग) ।

गिल सक [गृ] गिलना, निगलना, भक्षण करना । संक. गिलिऊण (नाट) ।

गिलण न [गरण] निगरण, भक्षण (हे ४, ४४५) ।

गिला } श्रक [गलै] १ ग्लान होना, बीमार  
गिलाअ } होना । २ खिन्न होना, थक जाना । ३ उदासीन होना । गिलाइ, गिलायइ, गिला-एमि (भग; कस; आचा) । वक्क. गिलायमाण (ठा ३, ३) ।

गिला स्त्री [ग्लानि] १ बीमारी, रोग । २ खेद, थकावट (ठा ८) ।

गिलाण देखो गिलाअ; 'गिलाणइ कज्जे' (स ७१७) ।

गिलाण वि [ग्लान] १ बीमार, रोगी (सूत्र १, ३, ३) । २ अशक्त, अक्षम, थका हुआ (ठा ३, ४) । ३ उदासीन, हर्ष-रहित (णाय्या १, १३; हे २, १०६) ।

गिलाणि स्त्री [ग्लानि] ग्लानि, खेद, थकावट (ठा ५, १) ।

गिलायय वि [ग्लायक] ग्लानि-युक्त, लान (श्रीप) ।

गिलासि पुं स्त्री [ग्रासिन्] व्याधि-विशेष, भस्मक रोग (आचा) । स्त्री. णी (आचा) ।

गिलिअ वि [गिलित] निगला हुआ, भक्षित (सुपा ३, २०६; सुपा ६४०) ।

गिलिअवंत वि [गिलितवन्] जिसने भक्षण किया हो वह (पि ५६६) ।

गिलोइया स्त्री [दे] गृह-गोवा, छिपकली गिलोई (सुपा ६४०; पुष्क २६७) ।

गिल्लि स्त्री [दे] १ हाथी की पीठ पर कसा जाता होता, हौदा (णाय्या १, १—पत्र ४३ टा; श्रीप) । २ डोली, दो आदमी से उठाई जाती एक प्रकार की शिविका (सूत्र २, २; दसा ६) ।

गिग्वाण पुं [गोवाण] देव, सुर, विदश (उप ५३० टी) ।

गिह न [गृह] घर, मकान (आचा; आ २३; स्वप्न ६४) । २ स्थ पुं स्त्री [स्थ] गृहस्थ, गृही, संसारी (कप्प; द्र ५) । स्त्री. त्या (पउम ४६, ३३) । ३ नाह पुं [नाथ] घर का मालिक (आ २८) । ४ छिगि पुं स्त्री [लिङ्गिन्] गृहस्थ, गृही, संसारी (दंस) । ५ वड पुं स्त्री [पति] गृहस्थ, गृही, घर का मालिक (ठा ५, ३; सुपा २३४) । ६ वास पुं [वास] १ घर में निवास । २ द्वितीयाश्रम, संसारिपन; 'गिहवासं पासं पिव मन्तंती वसइ दुक्खिओ तम्मि' (वम्म; सूत्र १, ६) । ३ वट्ट पुं [वत्त] द्वितीय आश्रम, संसारिपन (सूत्र १, ४, १) । ४ आसम पुं [आश्रम] घर-वास, द्वितीयाश्रम (स १४८) ।

गिहिकोइला स्त्री [गृहकोकिला] गृहगोषा, छिपकली (स ७५८)।  
 गिहमेहि पुं [गृहमेधिन] गृहस्य (धर्मवि २६)।  
 गिहवइ पुं [गृहपति] देश का अधिपति, सूवे-वारः 'तह गिहवईवि देस नायगो' (पव ८५)।  
 गिहि पुं [गृहिन] गृही, संसारी, गृहस्य (श्रौष १७ भाः नव ४३)। °धम्म पुं [°धम्म] गृहस्य-धर्म, श्रावक-धर्म (राज)। °लिंग न [°लिंग] गृहस्य का वेश (वृह १)।  
 गिहिणी स्त्री [गृहिणी] गृहिणी, भार्या, स्त्री (सुपा ८३; आ १६)।  
 गिहीअ वि [गृहीत] आत्त, उपात्त, ग्रहण किया हुआ (स ४२८)।  
 गिहेलुग देखो गिहेलुय (आचा २, ५, १, ८)।  
 गिहेलुय पुं [गृहेलुक] देहली, द्वार के नीचे की लकड़ी (निचू १३)।  
 गी स्त्री [गिर] वाणी, भाषा, वाक्; 'थिरमुज्जलं च छायाघणं च गीविलसिधं जस्स' (गडड)।  
 गीआ स्त्री [गीता] श्रीमद्भगवद्गीता, ज्ञानमय उपदेश, छन्द-विशेष (पिंग)।  
 गीइ स्त्री [गीति] ? छन्द-विशेष, आर्या-वृत्त का एक भेद। २ गान, गीत (ठा ७; उप १३० टी)।  
 गीइया स्त्री [गीतिका] ऊपर देखो (श्रौष; साया १, १)।  
 गीय वि [गीत] ? पद्य-मय वाक्य, गेय, जो गायी जाय वह (परह २, ५; अणु)। २ कथित, प्रतिपादित (साया १, १)। ३ प्रसिद्ध, विख्यात (संया)। ४ न. गान, ताल और वाजे के अनुसार गाना (जं २; उत्त १)। ५ संगीत-कला, गान-कला, संगीत-शास्त्र का परिज्ञान (साया १, १)। ६ पुं. गीतार्थ, उत्सर्ग और अपवाद वगैरह का जानकार जैन साधु, विद्वान् जैन मुनि (उप ७७३)। °जस पुं [°यशास्] इन्द्र-विशेष, गन्धर्व देवों का एक इन्द्र (ठा २, ३; इक)। °थ्य पुं [°थ्य] ३. विद्वान् जैन मुनि (उप ८३३ टी; वव ४; सुपा १२७)। २ संगीत-रहस्य (मे १४)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (पउम ५५; ५३)। °रइ स्त्री [°रति] ? संगीत-क्रीडा

(श्रौष)। २ पुं. गन्धर्व देवों का एक इन्द्र (इक, भग, ३, ८)। ३ गन्धर्व-सेना का अधिपति देव-विशेष (ठा ७)। ४ वि. संगीत-प्रिय, गान-प्रिय (विपा १, २)।  
 गीवा स्त्री [ग्रीवा] कण्ठ, गरदन (पात्र)।  
 गुंछ देखो गुच्छ (हे १, २६)।  
 गुंछा स्त्री [दे] ? विन्दु। २ दाढ़ी-मूँछ। ३ अघम, नीच (दे २, १०१)।  
 गुंज अक [हस्] हँसना, हास्य करना। गुंजइ (हे ४, १६६)।  
 गुंज अक [गुञ्ज] ? गुन-गुन करना, भ्रमर आदि का आवाज करना। २ गर्जना, सिंह वगैरह का आवाज करना; 'गुंजति सीहा' (महा)। वक्र. गुंजंत (साया १, १—पत्र ५ रंभा)।  
 गुंज पुं [गुञ्ज] ? गुञ्जारव करता वायु (पउम १३, ४३)। २ पर्वत-विशेष; 'गुंजवरपव्वयं ते' (पउम ८, ६०; ६४)।  
 गुंजा स्त्री [गुञ्जा] ? लता-विशेष (सुर २, ६)। २ फल-विशेष, घुंघची (साया १, १; गा ३१०)। ३ भम्भा, वाद्य-विशेष (आचा)। ४ परिणाम-विशेष (ठा ४, १)। ५ गुञ्जारव, गुंजन, गुन-गुन आवाज; 'गुंजाचक्कुकुहरोवपुंढं' (राय)। ६ वायु-विशेष; गुञ्जारव करनेवाला वायु (जीव १; जो ७) °फल, °हल न [°फल] फल-विशेष, घुंघची (सुर २, ६; सुपा २६१)।  
 गुंजालिआ स्त्री [गुञ्जालिका] गंभीर तथा देढ़ी वापी—वावली या वावड़ी (आचा २, ३, ३, १)।  
 गुंजालिया स्त्री [गुञ्जालिका] वक्र-सारिणी, देढ़ी कियारी (साया १, १)। २ गोल पुष्करिणी (निचू १२)। ३ वक्र नदी (परण ११)।  
 गुंजाविअ वि [हासित] हँसाया हुआ (कुमा ७, ४१)।  
 गुंजिअ न [गुञ्जित] गुन-गुन आवाज, भ्रमर वगैरह का शब्द (कुमा)।  
 गुंजिर वि [गुञ्जित्] गुन-गुन आवाज करनेवाला (उप १०३१ टी)।  
 गुंजुल देखो गुंजोल गुंजुलइ (हे ४, २०२)।

गुंजेलिअ वि [दे] पिरडीकृत, इकट्टा किया हुआ (दे २, ६२)।  
 गुंजोल सक [वि + लुल] विकेरता। गुंजोल्लइ (प्राकृ ७३)।  
 गुंजोल अक [उत् + लस्] उल्लास पाना, विकसित होना। गुंजाल्लइ (हे ४, २०२)।  
 गुंजोलिअ वि [उल्लसित] विकसित, विकसित (कुमा)।  
 गुंठ सक [उद् + धूल्य्, गुण्ठ] धूल वाला करना, धूलो के रंग का करना, धूसरित करना। गुंठइ (हे ४, २६)। वक्र. गुंठंत (कुमा)।  
 गुंठ पुं [दे] अघम अरव, दुष्ट घोड़ा (दे २, ६१; स ४५४)। २ वि. मायावी, कपटी (वव ३)।  
 गुंठा स्त्री [दे] माया, धम्म, छल (वव ३)।  
 गुंठिअ वि [गुण्ठित] ? धूसरित। २ व्यास ३ आच्छादित (दे १, ८५)।  
 गुंठी स्त्री [दे] नीरंगी, स्त्री का वस्त्र-विशेष (दे २, ६०)।  
 गुंड न [दे] मुस्ता से उत्पन्न होनेवाला तुण-विशेष (दे २, ६१)।  
 गुंडण न [गुण्डन] धूलि का लेप, धूल का शरीर में लगाना; 'रयरेणुगुंण्डणिय य नो सम्मं सहसि' (साया १, १—पत्र ७१)।  
 गुंडिअ वि [गुण्डित] ? धूलि-लित, धूलि-युक्त (पात्र)। २ लित, पता हुआ; 'चुरण गुंदिअगातं' (विपा १, २—पत्र २४)। ३ घिरा हुआ; 'सउणी जह पसुगुंडिया' (सुअ १, २, १)। ४ आच्छादित, प्रावृत्त (आवा)। ५ प्रेरित (परह १, ३)।  
 गुंथण न [अन्थन] गूथना, गठना (रयण १८)।  
 गुंद पुं [गुन्द्र] वृक्ष-विशेष (पात्र)।  
 गुंदल न [दे. गुन्दल] ? आनन्द-वर्चन, खुशी की आवाज, हर्ष की तुमुलवनि; 'मत्तवरकामिणीसंघकयगुंदलं' (सुर ३, ११५)। 'करिणीहि कलहेहि य खणमेक्कं हरिसणुंदलं काउं' (सुपा १३७)। २ हर्ष-भर, आनन्द-संदेह, खुशी की वृद्धि; 'अमंदआणंदणुं दल-पुक्कं', 'आणंदणुं दलेणं ललइ लीलावईहि परिकलिओ' (सुपा २२; १३६)। वि. आनन्द-

मग्न, खुशी में लीन; 'तं वह दद्दु' आणंद-  
गुंढलं' (सुपा १३४)।

गुंढवडय न [दे] एक प्रकार की मिठाई, गुज-  
राती में जिसको 'गुंढवडा' कहते हैं (सुपा  
४८५)।

गुंदा } ली [दे] १ किन्दु २ अरवम, नीच  
गुंदा } (दे २, १०१)।

गुंथ सक [ग्रन्थ] गठना। गुंथइ (प्राकृ  
६३)।

गुंफ सक [गुम्फ] गुंथना, गठना। गुंफइ  
(पड्) वक्र. गुंफंत (कुमा)।

गुंफ पुं [गुम्फ] १ रचना, गुंथना, ग्रन्थन  
(उप १०३१ टी; दे १, १५०; ६, १४२)।

गुंफ पुं [दे] गुंथि, कारागार, जेल (दे २,  
६०)।

गुंफण न [दे] गोफन, पत्थर फेंकने का अत्र-  
विशेष; 'गुंफणफेरणसुंकारणहि' (सुर २, ८)।

गुंफी ली [दे] शतपदी, खुद्र कीट-विशेष,  
गोजर, कनखजूरा (दे २, ६१)।

गुंगुल पुं [गुंगुल] सुगन्धित द्रव्य-विशेष,  
गुगल या गुगुल (सुपा १५१)।

गुंगुली ली [गुंगुली] गुगल का पेड़ (जी  
१०)।

गुंगुलु देखो गुंगुल (स ४३६)।

गुच्छ } पुं [गुच्छ] १ गुच्छा, गुच्छक,  
गुच्छय } स्तवक (उत्त २; स्पल ७२)। २  
कुर्सी की एक जाति (परण १)। ३ पत्तों  
का समूह (जं १)।

गुच्छय देखो गोच्छय (शेष ६६८)।

गुच्छिय वि [गुच्छित] गुच्छा वाला, गुच्छ-  
युक्त; 'निच्चं गुच्छिया' (राय)।

गुज्ज देखो गोज्ज (सुपा २८१)।

गुज्जर पुं [गूज्जर] १ भारत का एक प्रान्त,  
गुजरात देश (मिग)। २ वि. गुजरात का  
निवासी। ली. °री (नाट)।

गुज्जरत्ता ली [गूज्जरत्ता] गुजरात देश (साधं  
६८)।

गुज्जलिअ वि [दे] संपटित (पड्)।

गुज्जक पुं [गुज्ज] एक देव-जाति (दस ७,  
५३)।

गुज्जक } वि [गुज्ज] १ गोपनीय, छिपाने  
गुज्जकअ } योग्य (शाया १, १; हे २, १२४)।

२ न. गुप्त वात, रहस्य; 'सिर्मतिणहिययगयं

गुज्जकं पित्त तस्वरणा फुट्ट' (उप ७२८ टी)।  
३ लिग, पुरुष-चिह्न। ४ योनि, ली-चिह्न (वर्म  
२)। ५ मैथुन, संभोग (परह १, ४)। °हर  
वि [°हर] गुप्त वात को प्रकट नहीं करने-  
वाला (दे २ ४३)। °हर वि [°हर] रहस्य-  
भेदी, गुप्त वात को प्रसिद्ध करनेवाला (दे २,  
६३)।

गुज्जकअ } पुं [गुज्जक] देवों की एक जाति  
गुज्जका } (ज ५, ३)।

गुट्ट न [दे] स्तम्भ, तुण-कारण; 'अज्जुण-  
गुट्टं व तत्स जाणुइ' (जवा)।

गुट्ट देखो गोट्ट (पात्र; भत्त १६२)।

गुट्टी देखो गोट्टी (सूक्त ५८)।

गुड सक [गुड] १ हाथी को कवच वगैरह  
से सजाना। २ लड़ाई के लिए तय्यार करना,  
सजाना; 'गुडह गईदे पठणीकरेह रहक्कपा-  
इक्के' (सुपा २८८)। कवक. 'गुडिअगुडिज्जं-  
तभडे' (सि १२, ८७)।

गुड सक [गुड] नियन्त्रण करना। गुडेइ  
(संवोध ५४)।

गुड पुं [गुड] १ गुड, ईल का विकार, लाल  
शक्कर (हे १, २०२; प्रासू १५१)। २ एक  
प्रकार का कवच (राज)। °सत्थ न [°सार्थे]  
नगर-विशेष (आक)।

गुडदालिअ वि [दे] पिएडीकृत, इकट्टा किया  
हुआ (दे २, ६२)।

गुडा ली [गुडा] १ हाथी का कवच। २  
अध का कवच (विपा १, २)।

गुडिअ वि [गुडित] क्वचित, वमित, कृत-  
संनाह (सि १२, ७३; ८७; विपा १, २)।

गुडिआ ली [गुडिका] गाली (गा १७७)।  
गुडीलद्धिआ ली [दे] बुम्भन (दे २, ६१)।

गुडुर पुं [दे] खीमा या खेमा, तंतू, डेरा,  
वडन-गृह (सिदि ४८२; ६४४)।

गुण सक [गुणय] १ गिनना। २ आवृत्ति  
करना, याद करना। गुणइ (सूक्त ५१; हे  
४, ४२२), गुणइ (जव)। वक्र. गुणमाण  
(उप पृ ३६६)।

गुण पुं [गुण] उच्चारण (सूत्रनि २०)। २  
रचना, मेखला (आचा २, २, १, ७)।

गुण पुं [गुण] १ गुण, पर्याय, स्वभाव,  
वर्म (ठा ५, ३)। २ ज्ञान, सुख वगैरह एक  
ही साथ रहनेवाला वर्म (सम्म १०७; १०६)।  
३ ज्ञान, विनय, दान, शौच, सदाचार वगैरह  
दोष-प्रतिपक्षी पदार्थ (कुमा; उत्त १६; अणु;  
ठा ४, ३; से १, ४)। ४ लाभ, फायदा;  
'विहवेहि गुणाइ मग्गति' (हे १, ३४; सुपा  
१०३)। ५ प्रशस्तता, प्रशंसा (शाया १,  
१)। ६ रज्जु, डेरा, घागा (सि १, ४)।  
७ व्याकरण-प्रसिद्ध ए, आ और अरू ह्म  
स्वर-विकार (सुपा १०३)। ८ जैन गृहस्य  
को पालने का व्रत-विशेष, गुण-व्रत (पंचव  
३)। ९ रूप, रस, गन्ध वगैरह द्रव्याश्रित  
वर्म; 'गुण-पचक्खतणआ गुणीवि जाओ पडाव्व  
पचक्खो' (ठा १, १; उत्त २८)। १०  
प्रत्यज्वा, धनुष का रोड़ा (कुमा)। ११ कार्य,  
प्रयोजन (भग २, १०)। १२ अग्रधान,  
अमुल्य, गौण (हे १, ३४)। १३ अंध,  
विभाग (अणु)। १४ उपकार, हित (पंचा  
५)। °कर वि [°कर] १ लाभ-कारक। २  
उपकार-कारक (पंचा ५)। °कार पुं [°कार]  
गुणा करना, अभ्यास-राशि (सम ६०)। °चंद  
पुं [°चन्द्र] १ एक राजकुमार (आवम)।  
२ एक जैन मुनि और ग्रन्थकार। ३ श्रेष्ठि-  
विशेष (राज)। °ट्टाण न [°स्थान] गुणों  
का स्वरूप-विशेष; मिथ्यादृष्टि वगैरह चउदह  
गुण-स्वानक (कम्म ४; पव ६०)। °ट्टिअ  
पुं [°तिथिक] गुण को प्रवान माननेवाला  
मत, नय-विशेष (सम्म १०७)। °ड्ड वि  
[°द्वय] गुणी, गुणवान् (सुर ३, २०;  
१३०)। °ण, °णु, °न्न, °न्नु वि [°ज्ञ]  
गुण का जानकार (गउड; उवर ८६; उप  
५३० टी; सुपा १२२)। °पुरिस पुं [°पुरुष]  
गुणी पुरुष (सूत्र १, ४) °मंत वि [°वन्]  
गुणी, गुण-युक्त (आचा २, १, ६)। °रणसं-  
वच्छर न [°रत्नसंवत्सर] तपश्चर्या-विशेष  
(भग)। °व, °वंत वि [°वन्] गुणी,  
गुण-युक्त (था ३६; उप ८७५)। °ववय न  
[°व्रत] जैन गृहस्य को पालने योग्य-व्रत-  
विशेष (पडि)। °सिलय न [°शिलक]  
राजगृह नगर का एक चैत्य (शाया १, १)।  
°सेदि ली [°श्रेणि] कर्म-पुद्गलों की रचना-

विशेष (पंच)। °सेण पुं [°सेन] इस नाम का एक प्रसिद्ध राजा (स ६)। °हर वि [°धर] ? गुणों की धारण करनेवाला, गुणी। २ तन्तु-धारक। स्त्री. °रा (सुपा ३२७)। °य्यर पुं [°य्यर] गुणों की खान, अनेक गुण-वाला, गुणी (पउम १५, ६८; प्रासू १३४)। गुण देखो एगुणः 'गुणान्ति अणमत्ते सुराववं तु जइ इहागच्छे' (कम्म २; ८; ५, ५४; ५६; आ ४४)। गुण वि [°गुण] गुना, आवृत्तः 'वीसगुणो तोसगुणो' (कुमा; प्रासू २६)। गुणण न [गुणन] १ गुणकार (पव २३६)। २ ग्रन्थ-परावर्तन, आवृत्ति; 'गुणण' (? गुण-णण) प्पेहामु अ अस्तो' (पिड ६६४)। गुणणा स्त्री [गुणना] ऊपर देखो (सम्यक्को १५)। गुणयालीस स्त्री [एकोनचत्वारिंशत्] उनचालीस, ३६ (राय ५६)। गुणवुडिड स्त्री [गुणवुद्धि] लगातार आठ दिनों का उपवास (संबोध ५८)। गुणसेण पुं [गुणसेन] एक जैन आचार्य जो सुप्रसिद्ध हेमाचार्य के प्रगुर थे (कुप्र १६)। गुणा स्त्री [दे] मिश्रण-विशेष (भवि)। गुणाचिय वि [गुणित] पड़ाया हुआ, पाठित; 'तत्थं सो अज्जएण सयलाओ वणुवेयाइयाओ महत्थविज्जाओ गुणाविओ' (महा)। गुणि वि [गुणिन्] गुण-युक्त, गुणवाला (उप ५६७ टी; गवड; प्रासू २६)। गुणिअ वि [गुणित] १ गुना हुआ, जिसका गुणा किया गया हो वह (आ ६)। २ चितित, याद किया हुआ (स ११, ३१)। ३ पठित श्रवीत (शोध ६२)। ४ जिस पाठ की आवृत्ति की गई हो वह, परावर्तित (वव ३)। गुणिल्ल वि [गुणवत्] गुणी, गुण-युक्त (पि ५६५)। गुणण देखो गोणण (अणु १४०)। गुण्ह (अप) देखो गिण्ह। गुण्हइ (प्राक् ११२)। गुत्त न [गोत्र] साधुत्व, साधुपन (सूत्र २, ७, १०)। गुत्त वि [गुत्त] गुप्त, प्रच्छन्न, छिपा हुआ (णाय १, ४; सुर ७, २३४)। २ रक्षित (उत्त

१५)। ३ स्व-पर की रक्षा करनेवाला, गुप्ति-युक्त, मन वगैरह की निर्दोष प्रवृत्तिवाला (उप ६०४)। ४ एक स्वनाम-प्रसिद्ध जैनाचार्य (आक)।

गुत्त देखो गोत्त (पायः भग; आवम)। गुत्तण्हाण न [दे] निवृत्त-पक्ष (दे २, ६३)। गुत्ति स्त्री [गुत्ति] १ कैदखाना, जेल (सुर १, ७३; सुपा ६३)। २ कठवरा (सुपा ६३)। ३ मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना। ४ मन वगैरह की निर्दोष प्रवृत्ति ठा २, १; सम ८)। °गुत्त वि [°गुत्त] मन वगैरह की निर्दोष प्रवृत्तिवाला, संयत (परह २, ४)। °पाल पुं [°पाल] जेल का रक्षक, कैदखाना का अध्यक्ष (सुपा ४६७)। °सेण पुं [°सेन] ऐश्वर्य क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३)। गुत्ति स्त्री [गुत्ति] गोपन, रक्षण (गु १२)। गुत्ति स्त्री [दे] १ वन्दन (दे २, १०१; भवि)। २ इच्छा, अभिलाषा। ३ वचन, आवाज। ४ लता, बल्ली। ५ सिर पर पहनी जाती फूल की माला (दे २, १०१)। गुत्तिदिय वि [गुत्तिन्द्रिय] इंद्रिय-निग्रह करने वाला, संयतेंद्रिय (भग; णाय १, ४)। गुत्तिय वि [गौत्तिक] रक्षक, रक्षण करने-वाला; 'नगरगुत्तिए सद्दावेइ' (कप्प)। गुत्तिय वि [गौत्तिक] गोती, समात गोद-वाला, गोतियां (कुप्र ३४४)। गुत्तिवाल देखो गुत्ति-पाल (धर्मवि २६)। गुत्थ वि [अथित] गुम्फित, सूँघा हुआ (स ३०३; प्राय; गा ६३; कम्म)। गुत्थंउ पुं [दे] भास-पक्षी, पक्षि-विशेष (दे २, ६२)। गुद पुंकी [गुद] गाँड़, गुदा (दे ६, ४६)। गुदह न [गोदह] नगर-विशेष (मोह ८८)। गुप्प अक [गुप्] व्याकुल होना। गुप्पइ (हे ४, १५०; पड)। वक्र. गुप्पंत, गुप्पमाण (कुमा ६, १०२; कप्प; औप)। गुप्प वि [गोप्य] १ छिपाने योग्य। २ न. एकान्त, विजन (ठा ४, १)। गुप्पई स्त्री [गोप्पदी] गौ का पैर हूवे उतना गहरा, 'को उत्तरिं जलहिं, निवृत्तुए गुप्पई-नीरे' (धम्म १२ टी)।

गुप्पंत न [दे] १ शयनीय, शय्या। २ वि. गोपित, रक्षित (दे २, १०२)। ३ समूह, मुग्ध, धवड़ाया हुआ, व्याकुल (दे २, १०२; से १, २; २, ४)।

गुप्पय देखो गो-पय (सूक्त ११)। गुप्फ पुं [गुल्फ] फीली, पैर की गाँठ (स ३३; हे २, ६०)। गुफगुमिअ वि [दे] सुगन्धी, सुगन्ध-युक्त (दे २, ६३)। गुग्भ देखो गुप्फ (पड)। गुभ सक [गुफ्] सूँघना, गठना। गुभइ (हे १, २३६)। गुम सक [भ्रम्] धूमना, पर्यटन करना, भ्रमण करना। गुमइ (हे ४, १६१)। गुमगुम } अक [गुमगुमाय्] १ 'गुम-गुमगुमाअ } गुम' आवाज करना। २ मधुर अव्यक्त ध्वनि करना। वक्र. गुमगुमंत, गुमगुमित, गुमगुमायंत (औप; णाय १, १; कप्प; पउम ३३, ६)। गुमगुमाइय वि [गुमगुमायित] जिसने 'गुम-गुम' आवाज किया हो वह (औप)। गुमिअ वि [भ्रमित] भ्रमित, धुमाया हुआ (कुमा)। गुमिल वि [दे] १ मूढ़, मुग्ध। २ गहन, गहरा। ३ प्रखलित। ४ आपूर्ण, भरपूर (दे २, १०२)। गुमुगुमुगुम देखो गुमगुम। वक्र. गुमुगुमु-गुमंत, गुमुगुमुगुमंत (पउम २, ४०; ६२, ६)। गुम्म अक [मुह्] मुग्ध होना, धवड़ाना, व्याकुल होना। गुम्मइ (हे ४, २०७)। गुम्म पुं [गुल्म] परिवार, परिकर; 'इत्थी-गुम्मसंपरिवुडे' (सूत्र २, २, ५५)। गुम्म पुंन [गुल्म] १ लता, बल्ली, वनस्पति-विशेष (परण १)। २ भाड़ी, वृक्ष-धटा (पात्र)। ३ सेना-विशेष, जिसमें २७ हाथी, २७ रथ, ८१ घोड़ा और १३५ प्यादा हों ऐसी सेना (पउम ५६, ५)। ४ वृन्द, समूह (औप; सूत्र २, २)। ५ गच्छ का एक हिस्सा, जैनमुनि-समाज का एक अंश (औप)। ६ स्वान, जगह (शोध १६३)।

गुम्मइअ वि [दे] १ मूड, मूल (दे २, १०३; श्रौष १३६; पात्र; पड्) । २ अपूरित, पूर्ण नहीं किया हुआ (पड्) । ३ पूरित, पूर्ण किया हुआ (दे २, १०३) । ४ स्वलित । ५ संचलित, मूल से उचलित । ६ विघटित, विपुक्त (दे २, १०३; पड्) ।  
 गुम्मड देखो गुम्म । गुम्मडइ (हे ४, २०७) ।  
 गुम्मडिअ वि [मोहित] मोह-युक्त, मुग्ध किया हुआ (कुमा ७, ४७) ।  
 गुम्मागुम्मि अ. जल्पावन्ध होकर (श्रौष) ।  
 गुम्मिअ वि [मुग्ध] १ मोह-प्राप्त, मूड (कुमा ७, ४७) । २ धृष्टित, मद से धूमता हुआ (वृह १) ।  
 गुम्मिअ पुं [गौलिमक] कोतवाल, नगर-रक्षक (श्रौष १६३; ७६६) ।  
 गुम्मिअ वि [दे] मूल से उखाड़ा हुआ, उन्मूलित (दे २, ६२) ।  
 गुम्मी स्त्री [दे] इच्छा, अभिलाषा (दे २, ६०) ।  
 गुम्मी स्त्री [गुल्मी] शतपदी, यूका, खटमल, जूँ (उत्त ३६, १३६; सुज ३६, १३६) ।  
 गुम्ह सक [गुम्फ्] गूँथना, गठना । गुम्हहु (शौ) (स्वन ५३) ।  
 गुम्ह देखो गुज्म (हे २, १२४) ।  
 गुम्ह देखो गुरु; 'जो गुम्हे साहीए धम्म साहेइ पोढवुद्धिओ' (पउम ६, ११४) ।  
 गुरु पुं [गुरु] १ शिक्षक, विद्या-दाता, गुरुअ ) पढ़ानेवाला (वव १; अणु) । २ धर्मोपदेशक, धर्मोचार्य (विसे ६३०) । ३ माता, पिता वगैरह पूज्य लोग (ठा १०) । ४ वृहस्पति, ग्रह-विशेष (पउम १७, १०८; कुमा) । ५ स्वर-विशेष, दो मानवाला आ, ई वगैरह स्वर, जिसके पीछे अनुस्वार या संयुक्त व्यञ्जन हो ऐसा भी स्वर-वर्ण (पिग) । ६ वि. वड़ा, महात् (उवा; से ३, ३८) । ७ भारी, वीर्यवान् (ठा १, १; कम्म १) । ८ उच्छृष्ट, उत्तम (कम्म ४, ७२; ७६) । ९ कम्म वि [कर्मन्] कर्मों का बोझवाला, पापी (सुपा २६५) । १० कुल न [कुल] १ धर्मो-चार्य का सामीप्य (पंचा ११) । २ गुरु-परिवार (उप ६७७) । ३ गइ स्त्री [गति]

गति-विशेष, भारीपन से ऊँचा-नीचा गमन (ठा न) । ४ लाघव न [लाघव] सारासार, अर्थात् और बुरापन (वव ४) । ५ सङ्किल्लग पुं [सहाध्यायिक] गुरु के भाई (वृह ४) ।  
 गुरुई देखो गरुई (गाया १, १) ।  
 गुरुणी स्त्री [गुर्वा] १ गुरु-स्थानीय स्त्री (सुर ११, २११) । २ धर्मोपदेशिका, साध्वी (उप ७२८ टी) ।  
 गुरेड न [गुरेट] तृण-विशेष (दे १, ५४) ।  
 गुल देखो गुड = गुड (ठा ३, १; ६; गाया १, ८; गा ५५४; श्रौष) ।  
 गुल न [दे] चुम्बन (दे २, ६१) ।  
 गुलगुल सक [उत् + क्षिप्] ऊँचा फेंकना । गुलगुलइ (हे ४, १४४) । संक. गुलगुल्लिऊण (कुमा) ।  
 गुलगुल देखो गुलगुल्ल = उद + नमय । गुलगुल्लइ (हे ४, ३६) ।  
 गुलगुल अक [गुलगुलाय] 'गुलगुल' आवाज करना, हाथों का हर्ष से चिंताइना या बोलना । वक्र. गुलगुलंत, गुलगुलंत (उप १०३१ टी; उवा; पउम ८, १७१; १०२, २०) ।  
 गुलगुलाइअ न [गुलगुलायित] हाथों की गुलगुलिय ) गजना (जं ५; सुपा १३७) ।  
 गुलल सक [चाटौ क] खुशामद करना । गुललइ (हे ४, ७३) । वक्र. गुललंत (कुमा) ।  
 गुललावणिया स्त्री [गुडलावणिका] एक तरह की मिठाई, गोलपापड़ी । २ गुडधाना (पव २५६; सुज २० टी) ।  
 गुलहाणिया स्त्री [गुडधानिका] लाघ-विशेष (पव ४) ।  
 गुलिअ वि [दे] मवित्त, विलोडित (दे २, १०३; पड्) । २ पुं. गेंद, कन्दुक; 'कंदुओ गुलियो' (पात्र) ।  
 गुलिआ स्त्री [दे] १ बुद्धिका । २ गेंद, कन्दुक । ३ स्तवक, गुच्छा (दे २, १०३) ।  
 गुलिआ स्त्री [गुलिका] १ गोली, गुटिका (महा; गाया १, १३; सुपा २६२) । २ वरुणक द्रव्य-विशेष, सुगन्धित द्रव्य-विशेष (श्रौष; गाया १, १—पव २४) ।  
 गुलुइय वि [दे] गुल्लित, गुल्लवाला, लता समूहवाला (श्रौष; भग) ।

गुलुइय पुं [गुलुइय] गुच्छ, गुच्छा (दे २, ६२) ।  
 गुलुगुल्ल देखो गुलुगुल्ल = उत् + लिप् । गुलुगुल्लइ (हे ४, १४४) ।  
 गुलुगुल्ल सक [उत् + नमय] ऊँचा करना, उन्नत करना । गुलुगुल्लइ (हे ४, ३६) ।  
 गुलुगुल्लिअ वि [उन्नमित] ऊँचा किया हुआ, उन्नमित (दे २, ६३; कुमा) ।  
 गुलुगुल्लिअ वि [दे] बाड़ से अन्तरित (दे २, ६३) ।  
 गुलुगुल्ल देखो गुलुगुल्ल । गुलुगुल्लति (भवि) । वक्र. गुलुगुल्लंत (पि ५५८) ।  
 गुलुगुलाइय ) देखो गुलुगुलाइअ (श्रौष; गुलुगुलिय ) पएह १, ३; स ३६६) ।  
 गुलुच्छ वि [दे] त्रमित, घुमाया हुआ, (दे २, ६२) ।  
 गुलुच्छ पुं [गुलुच्छ] गुच्छा, स्तवक (पात्र) ।  
 गुलुइय वि [गुलुमचत्] लता-समूहवाला, गुल्ल-युक्त (गाया १, १—पव ५) ।  
 गुय देखो गुप्त = गुप् । गुवति (भग १५) ।  
 गुवल्लय देखो कुवल्लय; 'मुद्दिगुवल्लयनिहारण' (गुंदि) ।  
 गुवालिया [दे] देखो गोआलिया (जी १७) ।  
 गुविअ वि [गुप्त] व्याकुल, क्षुब्ध (ठा ३, ४—पव १६१) ।  
 गुविल वि [गुपिल] १ गहन, गहरा, गाड़, निविड़ (सुर ६, ६६; उप पृ ३०; पएह १, ३) । २ न. भाड़ी, जंगल (उप ८३३ टी); 'इक्को करइ कम्मं, इक्को अणुहवइ दुक्कयविभारं । इक्को संसरइ जिओ, जरमरणचउगइगुविलं' (पव ४४) ।  
 गुविल वि [दे] चीनी का बना हुआ, मिची-वाला (मिष्टान्न) (उर ५, १०) ।  
 गुव्विणी स्त्री [गुव्विणी] गर्भवती स्त्री (सुपा २७७) ।  
 गुह देखो गुभ । गुहइ (हे १, २३६) ।  
 गुह पुं [गुह] काल्तिकेय, एक शिव-पुत्र (पात्र) ।  
 गुहा स्त्री [गुहा] गुफा, कन्दरा (पात्र; ठा २, ३; प्रासू २७१) ।  
 गुहिर वि [दे] गम्भीर, गहरा (पात्र; कण्प) ।

गूढ वि [गूढ] गुप्त, प्रच्छन्न, छिपा हुआ (परह १, ४; जी १०)। <sup>१</sup>दंत पुं [दन्त] १ एक अन्तर्द्वीप, द्वीप-विशेष। २ द्वीप-विशेष का निवासी (ठा ४, २)। ३ एक जैन मुनि। ४ अनुत्तरोपपातिक दशा सूत्र का एक अय्य-यन (अनु २)। ५ भरत क्षेत्र का एक भावी चक्रवर्ती राजा (सम १५४)।

गूढ सक [गूढ] छिपाना, गुप्त रखना। वक्र. गूहंत (स ६१०)।

गूढ न [गूय] न, विद्या (तंदु)।

गूहण न [गूहन] छिपाना (सम ७१)।

गूहिय वि [गूहित] छिपाया हुआ (स १८६)।

गूणह } (अप) देखो गिणह। गूहद (कुमा)।  
गूह } संक्र. गूहद्विपणु (हे ४, ३६४)।

गोअ वि [गोय] १ गाने योग्य, गाने लायक, गीत (ठा ४, ४—पत्र २८७, वक्रा ४४)। २ न. गीत, गान; 'मणहरगेयकुरीए' (सुर ३, ६६; गां ३३४)।

गोटुअ न [दे] स्तनों के ऊपर की वक्र-ग्रन्थि (दे २, ६३)।

गोटुह न [दे] कण्डुक, चोली (दे २, ६४)।

गोट न [दे] देखो गोटुअ (दे २, ६३)।

गोटुई ली [दे] लीडा, खेल, गम्मत, विनोद (दे २, ६४)।

गोटुअ पुं [कण्डुक] गेंद, गेंदा, खेलने की एक वस्तु (हे १, ५७; १८२; सुर १, १२१)।

गोज वि [दे] मथित, विलोडित (दे २, ८८)।

गोजल न [दे] ग्रीवा का आभरण (दे २, ६४)।

गोअ वि [ग्राह्य] ग्रहण-योग्य (हे १, ७८)।

गोडण न [दे] १ फेंकना, भेषण। २ दे देना; 'तत्त'वोडणकए ससंभमा आसमाउ लहु' (उप ६४८ टी)।

गोटु न [दे] १ पट्ट, कीच, कांदा। २ यव, अन्न-विशेष (दे २, १०४)।

गोडुी ली [दे] गेड़ी, गेंद खेलने की लकड़ी (कुमा)।

गोण्ह देखो गिणह। गोएहइ (हे ४, २०६; उव; महा)। भूका, गोएहीअ (कुमा)। मवि. गोएहसइ (महा)। वक्र. गोण्हंत, गोण्हमाण (सुर ३, ७४; विपा १, १)। संक्र. गोण्हत्ता,

गोण्हऊण, गोण्हअ (भग; पि ५८६; कुमा)। कृ. गोण्हयव्व (उत्त १)।

गोण्हण न [ग्रहण] आदान, उपादान, लेना (उप ३३६; स ३७५)।

गोण्हणया ली [ग्रहणा] ग्रहण, आदान (उप ५२६)।

गोण्हविय वि [ग्राहित] ग्रहण कराया हुआ (स ५२६; महा)।

गोण्हअ न [दे] उरः-सूत, स्तनाच्छादक-वक्र (दे २, ६४)।

गोद देखो गिद (श्रौप)।

गोरिअ } पुंन [गौरिक] १ गेरु, लाल रङ्ग  
गेरुअ } की मिट्टी (स २२३, पि ६०;  
११८)। २ मणि-विशेष, रत्न की एक जाति (परण १—पत्र २६)। ३ वि. गेरु रंग का (कम्पू)। ४ पुं. त्रिदण्डी साधु, सांख्य-मत का अनुयायी परित्वाजक (पव ६४)।

गोलणण } न [ग्लान्य] रोग, बीमारी, ग्लानि  
गोलन्न } (विसे ५४०; उप ४६६; श्रौष ७७; २२१)।

गोविज्ज } न [ग्रैवेयक] १ ग्रीवा का आभू-  
गोवेज्ज } ण, गले का गहना (श्रौप, णाया  
गोवेज्जय } १, २)। २ ग्रैवेयक देवों का विमान (ठा ६)। ३ पुं. उत्तम श्रेणी के देवों की एक जाति (कम्पू; श्रौप; भग; जी ३३; इक)।

गोवेय देखो गोवेज्ज (आचा २, १३, १)।

गोह पुंन [गोह] घर, 'न नईंन वणं न उज्जडो गेहो' (वक्रा ६८)।

गोह न [गोह] गृह, घर, मकान (स्वप्न १६; गउड)। <sup>१</sup>जामाउय पुं [जामाउक] घर-जमाई, सर्वदा ससुर के घर में रहनेवाला जामाता (उप पृ ३६६)। <sup>१</sup>गार वि [गार] १ घर के आकारवाला। २ पुं. कल्पवृक्ष की एक जाति (सम १७)। <sup>१</sup>लु वि [वत्] घरवाला, गृही, संसारी (पड)। <sup>१</sup>सम पुं [श्रम] गृहस्थाश्रम (पउम ३१, ८३)।

गोहि वि [गोहिन] लोलुप, अत्यासक्त (श्रौष ८७)।

गोहि ली [गोहिन] आसक्ति, गाथ्यं, लालच (स ११३; परह १, ३)।

गोहि वि [गोहिन] नीचे देखो (णया १; १४)।

गोहिय वि [गोहिक] १ घरवाला, गृही। २ पुं. भर्ता, धनी, पति (उत्त २)।

गोहिय [गोहिक] अत्यासक्त, लोलुप, लालची (परह १, ३)।

गोहिणी ली [गोहिनी] गृहिणी, ली (सुपा ३४१; कुमा; कम्पू)।

गो पुं [गो] भूप, राजा; 'तद्वो गो भूपसुर-स्तिणो ति' (वव १)। <sup>१</sup>माहिसक न [माहिसक] गौ और भैंस का झुंड या समूह 'निव्वुयं गोमाहिसकं' (स ६८६)।

गो पुं [गो] १ रश्मि, किरण (गउड)। २ स्वर्ग, देव-भूमि (सुपा १४२)। ३ वैल, वलीवदं। ४ पशु, जानवर। ५ ली. गैया; 'अपरपेरियतिरियानियमियदिग्गमणओणिलो गोव्व' (विसे १७५८; पउम १०३, ५०; सुपा २७५)। ६ वाणी, वाग् (सूअ १, १३)। ७ भूमि; 'जं महइ विक्कवणगोयराण लोओ पुलिदाण' (गउड; सुपा १४२)। <sup>१</sup>आल देखो <sup>१</sup>वाल (पुफ २१६)। <sup>१</sup>इह वि [मत्] गो-युक्त, जिसके पास अनेक गौ हो वह (दे २, ६८)। <sup>१</sup>उल न [कुल] १ गौओं का समूह (आव ३)। २ गोष्ठ, गो-वाड़ा; 'सामी गोउलगओ' (आवम)। <sup>१</sup>उलिय वि [कुलिक] गो-कुलवाला, गो-कुल का मालिक, गोवाला (महा)। <sup>१</sup>किलंजय न [किलंजक] पात्र-विशेष, जिसमें गौ को खाना दिया जाता है (भग ७, ८)। <sup>१</sup>कीड पुं [कीट] पशुओं की मक्खी, वधो (जी १६)। <sup>१</sup>खीर, <sup>१</sup>खीर न [खीर] गैया का दूध (सम ६०; णया १, १)। <sup>१</sup>गह पुं [ग्रह] गाय की चोरी, गौ को छीनना (परह १, ३)। <sup>१</sup>गहण न [ग्रहण] गो-ग्रहण (णया १, १८)। <sup>१</sup>णिसज्जा ली [निपच्चा] आसन विशेष, गौ की तरह बैठना (ठा १, १)। <sup>१</sup>तिथ्य न [तीर्थ] १ गौओं का तालाब आदि में उतरने का रास्ता, क्रम से नीची जमीन (जीव ३)। २ लक्षण समुद्र वगैरह की एक जगह (ठा १०)। <sup>१</sup>तास वि [त्रास] १ गौओं को त्रास देनेवाला। २ पुं. एक कूट्याह का पुत्र (विपा

१, २) । °दास पुं [°दास] १ एक जैन-मुनि, भद्रबाहु स्वामी का प्रथम शिष्य । २ एक जैनमुनिगण (कृष्ण; ठा ६) । °दोहिया स्त्री [°दोहिका] १ गौ का दोहन । २ आसन विशेष, गौ दुहने के समय जिस तरह बैठा जाता है उस तरह का उपवेशन (ठा ५, १) । °दुह वि [°दुह] गौ को दोहने-वाला (पड) । °धूलिआ स्त्री [°धूलिका] लगन-विशेष, गौओं को चरा कर लौटने का समय, सार्यकाल; 'विलव्य गोधूलिया' (रंनो) । °पय [°पय] न [°पय] १ गौ का चुर हुने उतना गहरा; 'लडम्मि जम्मि जोवाए जायइ गोपयं व भवजलही' (श्राप ६६) । २ गोपद-परिमित भूमि (अणु) । ३ गौ का चुर (ठा ४, ४) । °मद पुं [°मद] श्रेष्ठ-विशेष, शालिभद्र के पिता का नाम (ठा १०) । °भूमि स्त्री [°भूमि] गौओं को चरने की जगह (श्रावम) । °म वि [°मन्] गौवाला (विसे १४६८) । °मड न [°मड] गौ का शव (शाया १, ११—पत्र १७३) । °मय न [°मय] गोबर, गौ का नल, गो-विष्टा (मग ५, २) । °मुत्तिया स्त्री [°मुत्तिका] १ गौ का मूत्र, गोमूत्र (श्लेष ६४ ना) । २ गोमूत्र के आकारवाली गृहपंक्ति (पंचत्र २) । °मुहिय न [°मुहिय] गौ के मुत्र की आकारवाली ढाल (शाया १, १८) । °रहम पुं [°रहम] तीन वर्ष का बैल (सूत्र १, २, २) । °रोचन स्त्री [°रोचन] स्वनाम-स्वात् पीत-वर्ण द्रव्य-विशेष, गोमस्तकस्थित शुष्क-पित्त (सुर १, १३७) । स्त्री-°णा (पंचा ४) । °लेहणिया स्त्री [°लेहणिका] ऊपर भूमि (निचू ३) । °लोम पुं [°लोम] १ गौ का रोम, बाल । २ द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष (जीव १) । °वइ पुं [°वइ] १ इन्द्र । २ सूर्य । ३ राजा (सुपा १४२) । ४ महादेव । ५ बैल (हि १, २३१) । °वइय पुं [°वइय] गौओं की चर्या का अनुकरण करनेवाला एक प्रकार का तपस्वी (शाया १, १५) । °वय देखो °पय (राज) । °वाड पुं [°वाड] गौओं का बाड़ा (दि १, १४६) । °वइय देखो °वइय (श्लेष) । °साला स्त्री [°साला]

गौओं का बाड़ा (निचू ८) । °हण न [°हण] गौओं का समूह (गा ६०६; नुर १, ४६) । गोअ देखो गोव = गोपय । क. गोअणिज (नाट—मालती १२१) । गोअंट पुं [°दि] १ गौ का चरण । २ स्थल-शृङ्गाट, स्थल में होनेवाला शृङ्गाट या सिधाड़ा का पेड़ (दि २, ६८) । गोअगा स्त्री [°दि] ख्या, मुहल्ला (दि २, ६६) । गोअहा स्त्री [°दि] दूध बेचनेवाली स्त्री (दि २, ६८) । गोअर पुं [गोअर] द्वाबालय (दस ५, २, २) । गोअलिणी स्त्री [गोअलिनी] ग्वालिन, जो गयलभूमिमें डोवरम्मि मुह्लावहोय महण्यो । पुत्रिमगोअलिणीए मकलणपिटुव निम्मविओ । (वर्मवि ५५) । गोआ स्त्री [गोआ] नदी-विशेष, गोदावरी नदी, 'गोआणइकच्छकुडंगवासिणा दरिअसो-हेण' (गा १७५) । गोआ स्त्री [°दि] नगर, कलशो, छोटा षड़ा (दि २, ८८) । गोआअरी स्त्री [गोआअरी] नदी-विशेष, गोदावरी (गा ३५५) । गोआलिआ स्त्री [°दि] वर्षा ऋतु में उत्पन्न होनेवाला कीट-विशेष (दि २, ६८) । गोआवरी देशो गोआअरी (दि २, १७४) । गोअर न [गोअर] नगर या किले का दरवाजा (सम १३७, नुर १, ५६) । गोअरलिय वि [गोअरलिय] गो-घन पर नियुक्त पुरुष, गोकुल-रक्षक (कुप्र ३१) । गोअरी } स्त्री [°दि] मंजरी, वीर (दि २, ६५) । गोअरी } गोअ देखो कौंड = कौण्ड (इक) । गोअ न [°दि] कानन, वन, जंगल (दि २, ६४) । गोअी स्त्री [°दि] मंजरी, वीर (दि २, ६५) । गोअल देखो गुंदल (अवि) । गोअीण न [°दि] मयूर-पित्त, मोर का पित्त (दि २, ६७) । गोअफ पुं [गुअफ] पाद-ग्रन्थि, पैर की गाँठ (परह १, ४) । गोअण } पुं [गोअण] १ गौ का कान । गोअण } २ दो चुरवाला चतुष्पद-विशेष

(परह १, १) । ३ एक अन्नद्वीप, द्वीप-विशेष । ४ गोकर्ण-द्वीप का निवासी मनुष्य (ठा ४, २) । गोअलिज देखो गो-कलिजय (राज १४८) । गोअसुरय पुं [गोअसुरक] एक श्रौणयि का नाम, गोतल (स २५६) । गोअय पुं [°दि] प्राजन-रहड, कौड़ा, चायुक (दि २, ६७) । गोअइ देखो गुअइ (स ६, ४७; गा ५३२) । गोअइअ पुं [गोअइअ] पाद वर्णइ गोअइअ } साक करने का वर-रहड (कन परह २, ५) । गोअइअ न [°दि] गोमय, गो-विष्टा (सूत्र ३४) । गोअइ स्त्री [°दि] मंजरी, वीर (दि २, ६५) । गोअइय देखो गुअइय (श्लेष; शाया १, १) । गोअइ देखो गोअइअ (नाट—सूत्र ४१) । गोअलोया स्त्री [गोअलोया] क्षुद्र कीट-विशेष, द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष (परह १५) । गोअ पुं [°दि] १ शारीरिक दोषवाला बैल (सुपा २८१) । २ गानेवाला, गवैया, गायक; वीणावंससणाहं, गोअं नडनट्टुत्तगोअंवेह । वंदिनणोए सहरिसं, जयसहालायणं च कयं (पचन ८५, १६) । गोअ पुं [गोअ] गोवाड़ा, गौओं के रहने का स्थान (महा; पत्र १०३, ४८; गा ४४७) । गोआमाहिल पुं [गोआमाहिल] कम-गुदलों को जीव प्रदेश से अन्न-माननेवाला एक जैनाभास आचार्य (ठा ७) । गोअट्टि देखो गोअट्टि (श्रावम) । गोअट्टि पुं [गोअट्टिक] एक नरहली के गोअट्टिग } सदस्य, मित्र, समान-व्यक्त दोस्त गोअट्टिय } (शाया १, १६—पत्र २०५; विपा १, २—पत्र ३७) । गोअट्टी स्त्री [गोअट्टी] १ नरहली, समान वय-वालों की सम्रा (श्राय; दसनि १; शाया १, १६) । २ वात्सलाय, परामर्श (कुना) । गोअ पुं [गोअ] १ देश-विशेष (स २८६) । २ वि. गोअ देश का निवासी (परह १, १) । गोअ पुं [°दि] गोअ, पाद, पैर (नाट—सूत्र १५८) । गोअ स्त्री [गोअ] नदी-विशेष, गोदावरी (गा ५८; १०३) ।

गोडी स्त्री [गौडी] गुड़ की बनी हुई मदिरा, गुड़ का दाह (वृह २)।

गोडु वि [गौड] १ गुड़ का बना हुआ। २ मधुर, मीठा (भग १८, ६)।

गोडु [दे] देखो गोड (मृच्छ १२०)।

गोण पुं [दे] १ साक्षी (दे २, १०४)। २ वैल, वृषभ, बलीवर्द (दे २, १०४; कुमा, हे २, १७४; सुपा ५४७; औप; दस ५, १; आचा २, ३, ३; उप ६०४; विपा १, १)।

०इन्न वि [वत्] गाय वाला, गौओं का मालिक (सुपा ५४७)। ०वइ पुं स्त्री [पति] गौओं का मालिक, गौ वाला (सुपा ५४७)।

गोण (शे) पुंन [गो] वैल, 'गौणो, गौण' (प्राक् ८८)।

गोण वि [गौण] १ गुण निष्पन्न, गुण-युक्त, यथार्थ (विपा १, २; औप)। २ अप्रधान, अमुह्य (औप)।

गोणंगणा स्त्री [गवाङ्गना] गैया, गाय (सुपा ४६५)।

गोणत्त पुंन [दे] वैद्य का औजार रखने गोणत्तय का बैला (उप ३१७; स ४८४)।

गोणस पुं [गोनस] सर्प की एक जाति, फण-रहित साँप की एक जाति (परह १, १; उप पृ ४०३)।

गोणा स्त्री [दे] गाय, गैया, गऊ (पड)।

गोणिक पुं [दे] गो-समूह, गौओं का समूह (दे २, ६७; पात्र)।

गोणिय वि [दे] गौओं का व्यापारी (वव ६)।

गोणी स्त्री [दे] गाय, गैया (शोष २३ भा)।

गोण्य देखो गोण = गौण (कप्प; णाया १, १—पत्र ३७)।

गोतिहाणी स्त्री [दे. गोत्रिहायणी] गोवत्सा, गौ की बछड़ा (तंदु ३२)।

गोत्त पुं [गोत्र] १ पर्वत, पहाड़; (धा १४)। २ न. नाम, अभिवान, आख्या (से १५, १०)। ३ कर्म-विशेष, जिसके प्रभाव से प्राणी उच्च या नीच जाति का कहलाता है (ठा २, ४)। ४ पुंन. गोत, वंश, कुल, जाति; 'सत्त मूलगोत्ता परणत्ता' (ठा ७)।

०कखलिय न [स्खलित] नाम-विपर्याय, एक के बदले दूसरे के नाम का उच्चारण (से ११, १७)। ०देवथा स्त्री [देवता]

कुल-देवी (धा १४)। ०फुस्सिया स्त्री [स्पर्शिका] बल्ली-विशेष (परण १)।

गोत्त पुंन [गोत्र] १ पूर्वज पुरुष के नाम से प्रसिद्ध अपत्य—संतति (एदि ४६; सुज्ज १०, १६)। २ वि. वाणी का रक्षक (सूत्र १, १३, ६)।

गोत्ति वि [गोत्रिन्] समान गोत्रवाला, कुटुम्बी, स्वजन (सुपा १०६)।

गोत्ति देखो गुत्ति (स २४२)।

गोत्तिअ वि [गोत्रिक] समान गोत्रवाला, स्वजन, भाई-बंद (धा ७)।

गोत्थुभ देखो गोथुभ (इक)।

गोत्थुभा देखो गोथुभा (इक)।

गोथुभ पुं [गोस्तूप] १ ग्यारहवें जिन-गोथुभ देव का प्रथम-शिष्य (सम १५२; पि २०८)। २ बेलन्वर नागराज का एक आवास-पर्वत (सम ६६)। ३ न. मानुषोत्तर पर्वत का एक शिखर (दीव)। ४ कौस्तुभ-रत्न (सम, १५८)।

गोथुभा स्त्री [गोस्तूपा] १ वापी-विशेष, अंजन पर्वत पर की एक वापी (ठा ३, ३)। २ शकेन्द्र की एक अग्रमहिषी की राजधानी (ठा ४, २)।

गोदा स्त्री [दे गोदा] नदी-विशेष, गोदावरी (पड; गा ६५५)।

गोध पुं [गोध] १ म्लेच्छ देश। ३ गोव देश का निवासी मनुष्य (राज)।

गोधो स्त्री [गोधा] गोह, हाथ से चलनेवाली एक साँप की जाति (परह १, १; णाया १, ८)।

गोत्र देखो गोण (णाया १, १६—पत्र २००)।

गोपुर देखो गोउर (उत्त ६; अभि १८५)।

गोप्पहेलिया स्त्री [गोप्रहेलिका] गौओं को चरने की जगह (आजा २, १०, २)।

गोफणा स्त्री [दे] गोफन, पत्थर फेंकने का अस्त्र-विशेष (राज)।

गोमदा स्त्री [दे] रथ्या, मुहल्ला (दे २, ६६)।

गोमाअ पुं [गोमायु] शृगाल, सियार, गोदड़ गोमाउ पुं (नाट—मृच्छ ३२०; पि १६५; णाया १, ४; स २२६; पात्र)।

गोमाणसिया स्त्री [गोमानसिका] शय्या-कार-स्थान-विशेष (जीव ३)।

गोमाणसी स्त्री [गोमानसी] ऊपर देखो (जीव ३)।

गोमि पुं वि [गोमिन्] जिसके पास अनेक गोमिअ गौ हों वह, (अणु; निच २)।

गोमिअ देखो गोम्मिअ (राज)।

गोमिथा [दे] देखो गोमा (अणु २१२)।

गोमिक (मा) [गौरवित] संमानित (प्राक् १०१)।

गोमी स्त्री [दे] कनकजूरा, त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष (जी १६)।

गोमुह पुं [गोमुख] १ यज्ञ-विशेष, भगवान् ऋषभदेव का शासन-यज्ञ (संति ७)। २ एक अन्तर्दीप, द्वीप विशेष। ३ गोमुख-द्वीप का निवासी मनुष्य (ठा ४, २)। ४ न. उपलेपन (दे २, ६८)।

गोमुही स्त्री [गोमुखी] वाद्य-विशेष; (अणु; राय)।

गोमुही [गोमुखी] वाद्य-विशेष (राय ४६, अणु १२८)।

गोमेअ पुं [गोमेद] रत्न की एक जाति, गोमेउज राहुरत्न (कुमा ७०; उत्त २)।

गोमेह पुं [गोमेव] १ यज्ञ-विशेष, भगवान् नेमिनाथ का शासन-देव (सं ८)। २ यज्ञ-विशेष, जिसमें गौ का वध किया जाता है (पउम ११, ४१)।

गोम्मिअ पुं [गौम्मिक] कोतवाल, नगर-रक्षक (परह १, २)।

गोम्ही देखो गोमी (राज)।

गोय देखो गोत्त (सम ३३; कम्म १)।

०वाइ पि [वादिन्] अपने कुल को उत्तम माननेवाला, वंशाभिमानी (आचा)।

गोय न [दे] उदुम्बर—गूलर वगैरह का फल (आव ६)।

गोय न [गोत्र] मोन, वाक-संयम (सूत्र १, १४, २०)। ०वाय पुं [वाद] गोत्र-सूचक वचन (सूत्र १, ६, २७)।

गोयम पुं [गोतम] ऋषि-विशेष (ठा ७)। २ छोटा वैल (औप)। ३ न. गोत्र-विशेष (कप्प; ठा ७)।



गोयम वि [गौतम] १ गौतम गोत्र में उत्पन्न, गोतम-गोत्रीय; 'जे गोयमा ते सत्तविहा परएत्ता' (ठा ७; भग जं १) । २ पुं. भगवान् महावीर का प्रवान-शिष्य (भग १४, ७; उवा) । ३ इस नाम का एक राज-कुमार, राजा अश्वकवृष्टि का एक पुत्र, जो भगवान् नेमिनाथ के पास दोसा लेकर शत्रुञ्जय पर्वतपर मुक्त हुआ था (अन्त २) । ४ एक मनुष्य-जाति, जो बैल द्वारा भिन्ना माँग कर अपना निर्वाह चलाती है (गाया १, १४) । ५ एक ब्राह्मण (उप ६१७) । ६ द्वीप-विशेष (सम ८०; उप ५६७ टी) । 'केसिज्ज न [केशीय] 'उत्तराध्ययन' सूत्र का एक अध्येयन, जिसमें गौतम स्वामी और केशिमुनि का संवाद है (उत्त २३) । 'सगुत्त वि [सगोत्र] गोतम गोत्रीय (भग; आवम) । 'सामि पुं [स्वामिन्] भगवान् महावीर के सर्व-प्रवान शिष्य का नाम (विपा १, १—पत्र २) ।

गोयमज्जिया } क्षी [गौतमार्थिका] जैनमुनि-  
गोयमेज्जिया } गण की एक शाखा (राज;  
कम्प) ।

गोयर पुं [गोचर] १ गौश्रों को चरने की जगह, 'एो गोयरे एो वरणाणियाएण' (वृह ३) । २ विषय; 'अंबुत्तहगोयरं एामह... सयंनुं' (गडड) । ३ इन्द्रिय का विषय, प्रत्यक्ष; 'इय राया उज्जाएणं तं कासी नयणगोय्यरं सव्व' (कुमा) । ४ भिन्नाटन, भिन्ना के लिए भ्रमण (ओय ६२ भा; दस ५, १) । ५ भिन्ना, माधुकरी (उप २०४) । ६ वि. भूमि में विचरनेवाला; 'विक्कवणगोयराए पुलिदाएण' (गडड) । 'चरिआ क्षी [चर्या] भिन्ना के लिए भ्रमण (उप १३७ टी; पचम ४, ३) । 'भूमि क्षी [भूमि] १ पशुश्रों को चरने की जगह (दे ३, ४०) । २ भिन्ना-भ्रमण की जगह (ठा ६) । 'वत्ति वि [वत्तिन्] भिन्ना के लिए भ्रमण करनेवाला (गा २०४) । गोयरी क्षी [गौचरी] भिन्ना, माधुकरी (सुपा २६६) ।

गोर पुं [गौर] १ शुक्ल-वर्ण, सफेद रंग । २ वि. गौर वर्णवाला, शुक्ल (गडड; कुमा) । ३ अवदात, निर्मल (गाया १, ८) । 'खर पुं

[खर] गर्दभ की एक जाति (परण १) । 'गिरि पुं [गिरि] पर्वत-विशेष, हिमाचल (निचू १) । 'मिग पुं [मृग] १ हरिण की एक जाति । २ न. उस हरिण के चमड़े का बना हुआ वस्त्र (आचा २, ५, १) ।

गोरअ देखो गोरव (गा ८६) ।

गोरंग वि [गौराङ्ग] गौरा शरीरवाला, शुक्ल शरीरवाला (कप्पु) ।

गोरंफिडी क्षी [दे] गोधा, गोह, जन्तु-विशेष (दे २, ६८) ।

गोरडित वि [दे] द्रस्त, व्वस्त (पड्) ।

गोरव न [गौरव] १ महत्व, गुल्व (प्रावू ३०) । २ आदर, सम्मान, बहुमान (विसे ३४७३; खयए ५३) । ३ गमन, गति (ठा ६) ।

गोरविअ वि [गौरवित] सम्मानित, जिसका आदर किया गया हो वह (दे ४, ५) ।

गोरव्व वि [गौरव्य] गौरव-योग्य (वर्मेवि ६४; कुप्र ३७७) ।

गोरस पुंन [गोरस] गोरस, दूध, दही, मट्ठा या छाछ वगैरह (गाया १, ८; ठा ४, १) ।

गोरस पुं [गोरस] वारणी का आनन्द (सिरि १४०) ।

गोरह पुं [दे] हल में जोतने योग्य बैल (आचा २, ४२, ३) ।

गोरा क्षी [दे] लाङ्गल-मद्धति, हल-रेखा । २ चबु, आखि । ३ श्रीवा, गर्दन या डोक (दे २, १०४) ।

गोरिं देखो गोरी (हे १, ४) ।

गोरिअ न [गौरिक] विद्यावर का नगर-विशेष (इक) ।

गोरी क्षी [गौरी] १ शुक्ल-वर्ण क्षी (हे ३, २८) । २ पार्वती, शिव-पत्नी (कुमा; सुपा २४०; गा १) । ३ श्रीकृष्ण की एक स्त्री का नाम (अंत १५) । ४ इस नाम की एक विद्या-देवी (संति ६) । 'कूड न [कूट] विद्यावर-नगर-विशेष (इक) ।

गोरी क्षी [गौरी] विद्या-विशेष (सूत्र २, २, २७) ।

गोरूव न [गोरूप] प्रशस्त गाय (वर्मेवि ११२) ।

गोल पुं [दे] १ साली (दे २, ६५) । २

पुष्प का निन्दा-गर्भ. आमन्त्रण (गाया १, ६) । ३ निष्पूरता, कठोरता (दस ७) ।

गोल पुं [गोल] १ वृक्ष-विशेष, 'कदम्बगोल-एिहकंठश्रंतणिएग्रं' (अचु ५८) । २ गोलाकार, वृत्ताकार, मण्डलाकार वस्तु (ठा ४, ४, अनु ५) । ३ गोलक, कुंडा (सुपा २७०) । ४ गेंद, कन्दुक (सूत्र १, ४) ।

गोल पुंत्री [दे] गोला, जार से उत्पन्न, कुंड (दस ७, १४) । क्षी. 'ली (दस ७, १६) ।

गोलग पुं [गोलक] ऊपर देखो (सूत्र २, गोलय १; उप पृ ३६२ काल) ।

गोलव्यायण न [गौलव्यायन] गोत्र-विशेष (सुत्र १०, १६) ।

गोला क्षी [दे] गौ, गैया (दे २, १०४; पात्र) । २ नदी, कोई भी नदी । ३ सखी, सहेली, संगिनी (दे २, १०४) । गोदावरी नदी (दे २, १०४; गा ५८; १७५; हेका २६७; पि ८५; १६४; पात्र; पड्) ।

गोलिय पुं [गौडिक] गुड़ बनानेवाला (वव ६) ।

गोलिया क्षी [दे] १ गोली, गुटिका (राय; अणु) । गेंद, लड़कों के खेलने की एक चीज; 'तीए दासीए घडे गोलियाए भिन्नों' (दसनि २) । ३ बड़ा कुएडा, बड़ी, याली (ठा ८) । 'लिच्छ, 'लिच्छ न [लिच्छ, 'लिच्छ] १ बुल्लो, चूल्हा । २ अग्नि-विशेष (ठा ८—पत्र ४१७) ।

गोलियायण न [गौलिकायन] १ गोत्र-विशेष, जो कौशिक गोत्र की एक शाखा है । २ वि. गौलिकायन-गोत्रीय (ठा ७) ।

गोली क्षी [दे] मयनी या मयानी, मयनिया, दही मयने की लकड़ी, रहीं (दे २, ६५) ।

गोह न [दे] विम्बी-फल, कुन्दलन का फल (गाया १, ८; कुमा) ।

गोल्ल पुं [गौल्य] १ देश-विशेष (आवम) । २ न. गोत्र-विशेष, जो काश्यप गोत्र की शाखा है । ३ वि. गौल्य गोत्र में उत्पन्न (ठा ७) ।

गोल्ला क्षी [दे] विम्बी, बल्लो-विशेष, कुन्दलन की लतर (दे २, ६५; आवम; पात्र) ।

गोव सक [गोपय] १ छिपाना । २ रक्षण करना । गोवए, गोवेइ (सुपा ३४६; महा) ।

कवक. गोविजंत (सुपा ३३७; सुर ११, १६२; प्रासू ६५) ।

गोव } पुं [गोप] गौओं का रक्षक, ग्वाला,  
गोवअ } गोपाल (उवा ७; दे २, ५८;  
कप्प) । °जिरि पुं [°गिरि] पर्वत-विशेष;  
'गोवगिरिसिहरसंठियचरमजिणाधयणदारभव-  
रुद्ध (सुणि १०८६७) ।

गोवड्डण देखो गोवद्वण (पि २६१) ।

गोवण न [गोपन] १ रक्षण । २ छिपाना  
(आ २८; उप ५६७ टी) ।

गोवद्वण पुं [गोवर्धन] १ पर्वत-विशेष (पि  
२६१) । २ ग्राम-विशेष (पउम २०, ११५) ।

गोवय वि [गोपक] छिपानेवाला, डांकेवाला  
(संबोध ३४) ।

गोवर पुं [दे] गोवर, गोमय, गो-विष्टा (दे  
२, ६६; उप ५६७ टी) ।

गोवर पुं [गोवर] १ मगध देश का एक गाँव,  
गौतम-स्वामी की जन्मभूमि (आक) । २  
वणिग्-विशेष (उप ५६७ टी) ।

गोवल न [गोवल] १ गोवन, गोकुल, गौओं  
का समूह; 'रिति गोवलादे' (सुपा ४३३) ।  
२ गोत्र-विशेष (सुज १०) ।

गोवलायण देखो गोवह्लायण (सुज १०) ।

गोवलिय पुं [गोवलिक] ग्वाला, अहीर  
(सुपा ४३३) ।

गोवह्ल पुं [गोवल] गोत्र-विशेष (सुज १०,  
१६ टी) ।

गोवह्लायण वि [गोवह्लायण] १ गोवन्. गोत्र  
में उत्पन्न । २ न. गोत्र विशेष (इक) ।

गोवा पुं [गोपा] गौओं का पालन करने-  
वाला, ग्वाला (प्राप्ता) ।

गोवायं संक [गोपाय] १ छिपाना । २  
रक्षण करना । वहु. गोवायंत (उप ३५७) ।

गोवाल पुं [गोपाल] गौ पालनेवाला, ग्वाला,  
अहीर (दे २, २८) । °गुजरी स्त्री [°गुजरी]  
भैरव रागवाली भाषा-विशेष, गुजरात के  
अहीरों का गीत (कुमा) ।

गोवाल्य पुं [गोपालक] ऊपर देखो (पउम  
५, ६६) ।

गोवालि पुं [गोपालिन्] ग्वाला, गोप,  
अहीर (सुपा ४३२; ४३३) ।

गोवालिंगो स्त्री [गोपालिनी] गोप-स्त्री, अही-  
रिन, ग्वालि (सुपा ४३२) ।

गोवालिय पुं [गोपालिक] गोप, अहीर,  
ग्वाला (सुपा ४३३) ।

गोवालिया स्त्री [गोपालिका] गोप-स्त्री, गोपी,  
अहीरिन (आया १, १६) ।

गोवाली स्त्री [गोपाली] बल्ली-विशेष (पएण  
१) ।

गोवअ वि [दे] अजल्याक, नहीं बोलनेवाला  
(दे २, ६७) ।

गोवअ वि [गोपित] १ छिपाया हुआ । २  
रक्षित (सुर १, ८८; निर १, ३) ।

गोविआ स्त्री [गोपिका] गोपांगना, अहीरिन  
(कुमा; गा ११४) ।

गोविंद पुं [गोपेन्द्र] १ स्वनाम-ख्यात एक  
योग-विषयक ग्रन्थकार । २ एक जैनमुनि  
(पंचव; एदि) ।

गोविंद पुं [गोविन्द] १ विष्णु, कृष्ण । २  
एक जैन मुनि (ठा १०) । °णिज्जुत्ति स्त्री  
[°निर्युत्ति] इस नाम का एक जैन दार्शनिक  
ग्रन्थ (निचू ११) ।

गोविह्ल न [दे] कञ्जुक, चोली (दे २, ६४) ।

गोवी स्त्री [दे] बाला; कन्या, कुमारी, लड़की  
(दे २, ६६) ।

गोवी स्त्री [गोपी] गोपांगना, अहीरिन (सुपा  
४३५) ।

गोव्वर [दे] देखो गोवर (उप ५६३; ५६७  
टी) ।

गोस पुं [दे] प्रमात, सुवह, प्रातःकाल (दे  
२, ६६; सण; गउड; वव ६; पंचव २;  
पाअ; पड; पव ४) ।

गोसंधिय पुं [गोसंधित] गोपाल, अहीर  
(राज) ।

गोसग्ग पुं [दे. गोसर्ग] प्रातःकाल, प्रमात  
(दे २, ६६; पाअ) ।

गोसण्ण वि [दे] मूर्ख, बेवकूफ (दे २, ६७;  
पड) ।

गोसाल } पुं. व. [गोशाल] १ देश-विशेष  
गोसालग } (पउम ६८, ६५) । २ पुं. भगवान्  
महावीर का एक शिष्य, जिसने पीछे अपना  
आजीविक मत चलाया था (भग १५) ।

गोसाविआ स्त्री [दे] १ वेश्या, वारांगना  
(मुच्छ ५५) । २ मूर्ख-जननी (नाट—मुच्छ  
७०) ।

गोसिय वि [दे] प्रमातिक, प्रातःकाल-संबन्धी  
(सण) ।

गोसीस न [गोशीर्य] चन्दन-विशेष, सुगन्धित  
काष्ठ-विशेष (पएह ३, ४; ५; कप्प; सुर ४,  
१४; सण) ।

गोह पुं [दे] १ गाँव का मुखिया (दे २, ८६) ।  
२ भट, सुभट, योद्धा (दे २, ८६; महा) ।  
३ जार, उपपति (उप पृ २१५) । ४ सिपाही,  
पुलिस (उप पृ ३३५) । ५ पुरुष, आदमी,  
मनुष्य (मुच्छ ५७) ।

गोह पुं [दे] कोतवाल आदि क्रूर मनुष्य (सुख  
३, ६) । २ वि. ग्रामीण, ग्राम्य, गँवार या  
गँवाह, देहाती (सुख २, १३) ।

गोहा देखो गोधा (दे २, ७३; भग ८, ३) ।

गोहिया स्त्री [गोधिका] १ गोधा, गोह, जल-  
जन्तु-विशेष (सुर १०, १८६) । २ साँप की  
एक जाति (जीव २) । ३ वाद्य-विशेष  
(अणु) ।

गोहुर न [दे] गोमय, गो-विष्टा (दे २, ६६) ।

गोहूम पुं [गोधूम] अन्न-विशेष, गेहूँ (कस) ।

गोहेर } पुं [गोधेर] जन्तु-विशेष, साँप  
गोहेरय } की तरह का जानवर (पउम ४८,  
६२; ६१) ।

°गह देखो गह = ग्रह (गउड) ।

°गहण देखो गहण = ग्रहण (अभि ५६) ।

°गहण देखो गहण = ग्रहाण (कुमा) ।

## घ

घ पुं [घ] कएठ-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्रापः प्रामा) ।

घअअं न [दे] मुकुर, दर्पण (पङ्) ।

घई (अप) अ. पाद-पूरक और अनर्थक अव्यय (हे ४, ४२४; कुमा) ।

घओअ } पुं [घृनोद] ? समुद्र-विशेष,  
घओद } जिसका पानी घी के तुल्य स्वादिष्ट है (इकः ठा ७) । २ मेघ-विशेष (तित्य) ३ वि. जिसका पानी घी के समान मधुर हो ऐसा जलाशय । स्त्री. °आ, °दा (जीव ३; राय) ।

घंघ पुं [दे] गृह, मकान, घर (दे २, १०५) । °साला स्त्री [°शाला] अनाय-मण्डप, भिक्षुओं का आश्रय-स्थान (श्रौच ६३६; वव ७; आचा) ।

घंघल (अप) न [भ्रकट] ? भ्रगड़ा, कलह (हे ४, ४२२) । २ मोह, धवराहट (कुमा) ।

घंघलिअ वि [दे] घवड़ाया हुआ (संघ ६; प्रमंवि १३४) ।

घंघोर वि [दे] अमण-शील, भटकनेवाला (दे २, १०६) ।

घंघिय पुं [दे] तेली, तेल निकालनेवाला; गुजराती में 'घांघी' (सुर १६, १६०) ।

घंट पुंस्त्री [घण्ट] घण्टा, कांस्य-निर्मित वाद्य-विशेष (श्रौच ८६ भा) । स्त्री. °टा (हे १, १६५; राय) ।

घंटिय पुं [घण्टिक] चण्डाल का कुल-देवता, यक्ष-विशेष (वृह १) ।

घंटिय पुं [घाण्टिक] घण्टा बजानेवाला (कप्प) ।

घंटिया स्त्री [घण्टिका] ? छोटी घण्टी (ग्रामा) । २ किकिणी, छुंछुल (सुर १, २४८; जं २) । ३ आभरण-विशेष (शाया १, ६) ।

घंस पुं [घर्ष] घर्षण, घिसन (शाया १, १—पत्र ६३) ।

घंसण न [घर्षण] घिसन, रगड़ (स ४७) ।

घंसिय वि [घर्षित] घिसा हुआ, रगड़ा हुआ (श्रौच) ।

घनकृण देखो घे ।

घमघर न [दे] घँघरा, घघरा, लहंगा, त्रिवों के पहनने का एक वस्त्र (दे २, १०७) ।

घमघर पुं [घर्घर] ? शब्द-विशेष (गा०००) ।

२ खोखला गला; 'घमघरगलम्मि' (दे ६, १७) ।

३ खोखला आवाज; 'ह्यमाणी घमघरेण-सदेण' (सुर २, ११२) । ४ न. श्यादल, शैवाल या सेवार वगैरह का समूह (गडड) ।

घट्ट सक [घट्ट] ? स्पर्श-करना, छूना । २ हिलना, चलना । ३ संघर्ष करना । ४ आहत करना । घट्टइ (सुपा ११६) । वक्र-घट्टंत (ठा ७) । कवक. घट्टिजंत (से ३, ७) ।

घट्ट सक [घट्टय] हिलाना । संक्र. घट्टियाण (दस ५, १, ३०) ।

घट्ट अक [भ्रंश] अट्ट होना । घट्टइ (पङ्) ।

घट्ट पुं [दे] ? कुसुम्भ रंग से रंगा हुआ वस्त्र । २ नदी का घाट । ३ वेणु, वंश, वांस (दे २, १११) ।

घट्ट पुं [घट्ट] ? शंकराप्रमानामक तरक-भूमि का एक नरकावास (इक) । २ पुंन. जमाव (था २८) । ३ समूह, जत्या; 'ह्ययट्टइ' (सुपा २५६) । ४ वि. गाड़ा, निविड; 'मूल घट्टकररहओ' (सुपा ११) ।

घट्टसुअ न [दे. घट-शंशुक] वस्त्र-विशेष, बूटेदार कौसुम्भ वस्त्र (कुमा) ।

घट्टण वि [घट्टन] चालाक, हिला देनेवाला (पिंड ६३३) ।

घट्टण न [घट्टन] ? छूना, स्पर्श करना । २ चलाना, हिलाना (दस ४) ।

घट्टणग पुं [घट्टनक] पात्रवगैरह को चिकना करने के लिए उस पर घिसा जाता एक प्रकार का पत्थर (वृह ३) ।

घट्टणया } स्त्री [घट्टना] ? आघात, आह-  
घट्टणा } नन (श्रौच; ठा ४, ४) । २ चलन, हिलन (श्रौच ६) । ३ विचार । ४ घृच्छा (वृह ४) । ५ कदयना, पीड़ा (आचा) । ६ स्पर्श; छूना (परण १६) ।

घट्टय देखो घट्ट (महा) ।

घट्टिय वि [घट्टित] ? आहत; संघर्ष-युक्त

(जं १) । २ प्रेरित, चालित (परह १, ३) । ३ स्पृष्ट, छुआ हुआ (जं १; राय) ।

घट्ट वि [घट्ट] ? घिसा हुआ (हे २, १७४; श्रौच; सम १३७) ।

घड सक [घट्ट] ? चेष्टा करना । २ करना, बनाना । अक. परिश्रम करना । ४ संगत होना, मिलना । घडइ (हे १, १६५) वक्र. घडंत, घडमाण (से १, ५; निवृ १) । क. घडियव्व (शाया १, १—पत्र ६०) ।

घड सक [घट्टय] ? मिलाना, जोड़ना, संयुक्त करना । २ बनाना, निर्माण करना । ३ संचालन करना । घडइ (हे ४, ५०) । भवि. घडिस्सामि (सं ३६४) । वक्र. घडंत (सुपा २५५) । संक्र. घडिअ (दस ५, १) ।

घड पुं [घट्ट] घड़ा, कुम्भ, कलश (हे १, १६५) । °कार पुं [°कार] कुम्भकार, मिट्टी का बरतन बनानेवाला (उप पृ ४१५) ।

°चेडिया स्त्री [°चेटिका] पानी भरनेवाली दासी, पनहारिन (सुपा ४६०) । °दास पुं [°दास] पानी भरनेवाला नौकर, पनहारि आचा) । °दासी स्त्री [°दासी] पानी भरनेवाली, पनहारी (सूत्र १, १५) ।

घड वि [दे] स्त्रीकृत, बनाया हुआ (पङ्) ।

घडइअ वि [दे] संकुचित (पङ्) ।

घडग पुं [घटक] छोटा घड़ा (जं २; अणु) । घटगार देखो घड-कार (वव १) ।

घडचडग पुं [घटचटक] एक हिवा-अवान संप्रदाय (मोह १००) ।

घडण स्त्री [घटन] ? घटना, प्रसंग (वि १३) । २ अन्वय, संबंध (चेडिय ४६०) ।

घडण न [घटन] ? घड़ना या गड़ना, कृति, निर्माण (से ७, ७१) । २ यत्न, चेष्टा, परिश्रम (अनु ४; परह २, १) ।

घडणा स्त्री [घटना] मिलान, मेल, संयोग (सूत्र १, १, १) ।

घडय देखो घडग (जं २) ।

घडा स्त्री [घटा] समूह, जत्या (गडड) ।

घडाघडी स्त्री [ दे ] गोष्ठी, सभा, मण्डली (पङ्.) ।

घडाव सक [ घटय् ] १ बनाना । २ बनवाना । ३ संयुक्त करना, मिलाना । घडावइ (हे ४, ३४०) । संकृ. घडावित्ता (श्रावम) ।

घडि वि [ घटिन् ] घटवाला (अणु १४४) । घडिं स्त्री [ घटी ] देखो घडिआ = घटिका (प्राप् ५५) । मंतय, मत्तय न [ मात्रक ] छोटे घड़े के आकार का पात्र-विशेष (राज; कस) । जंत न [ यन्त्र ] रेंट, रेंट्ट, पानी निकालने का कल (पात्र) ।

घडिअ वि [ घटित ] १ कृत, निर्मित (पात्र) । २ संतक संवद, छिट्ट, मिला हुआ (पात्र; स १६४; श्रौप; महा) ।

घडिअघडा स्त्री [ दे ] गोष्ठी, मण्डली (दे २, १०५) ।

घडिआ स्त्री [ घटिका ] १ छोटा घड़ा, कलशी (गा ४६०; आ २७) । २ घड़ी, मुहूर्त (सुपा १०८) । ३ समय बतानेवाला यन्त्र, घटी-यन्त्र, घड़ी (पात्र) । लय न [ लय ] घराणगृह, घराण वजाने का स्थान (सुर ७, १७) ।

घडिआ स्त्री [ दे ] गोष्ठी, मण्डली (पङ्; घडी ) दे २, १०५) ।

घडिगा देखो घडिआ (सूत्र १, ४, २, १४) ।

घडी स्त्री [ घटी ] देखो घडिआ (स २३८; प्राह) ।

घडुक्य पुं [ घटोत्कच ] भीम का पुत्र (हे ४, २६६) ।

घडुभय वि [ घटोद्भय ] १ घट से उत्पन्न । २ पुं. श्रपि-विशेष, अगस्त्य मुनि (प्राह) ।

घट न [ दे ] ब्रह्म, टीला, स्तूप (पात्र) ।

घण पुं [ घन ] १ मेघ, बादल (सुर १३, ४५; प्राप् ७२) । २ हथौड़ा (दे ६, ११) । ३ गरित-विशेष, तीन अंकों का पूरण करना, जैसे दो का घन आठ होता है (ठा १०—पत्र ४६६; विसे ३५४०) । ४ वाद्य का शब्द-विशेष, कांस्थताल वगैरह (ठा २, ३) ।

५ वि. दृढ़, ठोस (श्रौप) । ६ अविरल, निरिच्छ, निरिच्छद, सान्द्र (कुमा; श्रौप) । ७ गाढ़, प्रगाढ़; जाया पीई घणा तेति. (उप

५६७ टी) । ८ अतिशय, अधिक, अत्यन्त (राय) । ९ कठिन, तरलता-रहित, स्थान (जी ७; ठा ३, ४) । १० न. देवविमान-विशेष (सम ३७) । ११ पिरण्ड (सूत्र १, १, १) । १२ वाद्य-विशेष (सुज १२) ।

उदहि देखो घणोदहि (भग) । णिचिय वि [ निचित ] अत्यन्त निविड़ (भग ७, ८; श्रौप) । तव न [ तपस् ] तपश्चर्या-विशेष (उत्त ३) । दंत पुं [ दन्त ] १

इस नाम का एक अन्तर्द्वीप । २ उसका निवासी मनुष्य (ठा ४, २) । माल न [ माल ] वैताब्य पर्वत पर स्थित विद्यावर-

नगर-विशेष (इक) । सुइंग पुं [ सुइङ्ग ] मेघ की तरह गम्भीर आवाजवाला वाद्य-विशेष (श्रौप) । रह पुं [ रथ ] एक जैन मुनि (पउम २०; १६) । वाउ पुं [ वायु ]

स्थान वायु, जो नरक-पृथिवी के नीचे है (उत्त ३६) । वाय पुं [ वात ] देखो वाउ (भग; जी ७) । वाहन पुं [ वाहन ] विद्याधरों के राजा का नाम (पउम ५, ७७) ।

विञ्जुआ स्त्री [ विञ्जुता ] देवी-विशेष, एक दिक्कुमारी देवी का नाम (इक) । समय पुं [ समय ] वर्षा-काल, वर्षा ऋतु (कुमा पात्र) ।

घणगुल पुंन [ घनाङ्गुल ] परिमाण-विशेष, सूची से गुना हुआ प्रतारगुल (अणु १५८) ।

घणसंभ्रद पुं [ घनसंभ्रद ] ज्योतिष-प्रसिद्ध योग विशेष, जिसमें चन्द्र या सूर्य ग्रह अथवा नक्षत्र के बीच में होकर जाता है वह योग (सुज १२—पत्र २३३) ।

घणघगाइय न [ घनघनायित ] रथ की घनघनाहट या गड़गड़ाहट, अव्यक्त शब्द-विशेष (पणह १, ३) ।

घणवाहि पुं [ दे ] इन्द्र, स्वर्गपति (दे २, १०७) ।

घणसार पुं [ घनसार ] कपूर (पात्र; भवि) । मंजरी स्त्री [ मञ्जरी ] एक स्त्री का नाम (कप्प) ।

घणा स्त्री [ घना ] वरुणेंद्र की एक अग्र-महिषी, इन्द्राणी-विशेष (खाया २, १—पत्र २५१) ।

घणा स्त्री [ घृणा ] घृणा, जुगुप्सा, गर्हा (प्राप्र) ।

घणिय न [ घनित ] गर्जना, गर्जन (सुज २०) ।

घणोदहि पुं [ घनोदधि ] पत्थर की तरह कठिन जल-समूह (सम ३७) । चलय न [ चलय ] बलयाकार कठिन जल-समूह (पण २) ।

घण पुं [ दे ] १ उर, वक्षस्, छाती । २ वि. रक्त, रंगा हुआ (दे २, १०५) । ३ घात्य, मार डालने योग्य (सूत्र कृ २-७, पत्र ४१०) ।

घत्त सक [ क्षिप् ] १ फेंकना, डालना । २ प्रेरणा । घत्तइ (हे ४, १४३) । संकृ- 'श्रकाश्रो घत्तिऊण वरवीरा' (पउम ७८, २०; स ३५१) ।

घत्त सक [ ग्रह् ] ग्रहण करना । भवि. घत्तिस्तं (प्रयो ३३) ।

घत्त सक [ गवेपय् ] खोजना, ढूँढना, अनु-संधान करना । घत्तइ (हे ४, १८६) । संकृ घत्तिअ (कुमा) ।

घत्त सक [ यत् ] यत्न करना, उद्योग करना । घत्तह (तंदु ५६) ।

घत्त वि [ घात्य ] १ मार डालने योग्य । २ जो मारा जा सके (पि २८१, -सूत्र २, ७, ६; ८) ।

घत्तण न [ ज्ञेपण ] फेंकना (कुमा) ।

घत्ता स्त्री [ घत्ता ] छन्द विशेष (पिंग) ।

घत्ताणंद न [ घत्तानन्द ] छन्द-विशेष (पिंग) ।

घत्ति अ [ दे ] शीघ्र, जल्दी (प्राकृ ८१) ।

घत्तिय वि [ क्षिप्त ] प्रेरित (स २०७) ।

घत्तु वि [ घातुक ] मारनेवाला, घातक, जल्लाद (उत्त १८, ७) ।

घत्थ वि [ ग्रस्त ] गृहीत, पकड़ा हुआ (पिड ११६) ।

घत्थ वि [ ग्रस्त ] १ भक्षित, निगला हुआ, कवलित (पउम ७१, ५१; पणह १, ५) । २ आक्रान्त, अभिभूत (सुपा ३५२; महा) ।

घम्म पुं [ घर्म ] घाम, गरमी, संताप, धूप (दे १, ८७; गा ४१४) । २ पसीना, स्वेद (हे ४, ३२७) ।

घम्मा स्त्री [ घर्मा ] पहली नरक-पृथिवी (ठा ७) ।

घम्मोई स्त्री [ दे ] तृण-विशेष (दे २, १०६) ।

घम्मोडी स्त्री [ दे ] १ मध्याह्न काल । २ मशक, मच्छर, क्षुद्र जन्तु-विशेष । ३ ग्रामणी नामक-तृण (दे २, ११२) ।

घय न [घृत] घी, घृत (हे १, १२६; सुर १६, ६३)। °आसय पुं [°अव] जिसका वचन घी की तरह मधुर लगे ऐसा लविमानं पुरुष (आवम)। °किट्ट न [°किट्ट] घी का मैल (धर्म २)। °किट्टिया स्त्री [°किट्टिका] घी का मैल (पत्र ४)। °गोल न [°गोल] घी और गुड़ की बनी हुई एक प्रकार की मिठाई, मिष्ठान-विशेष (सुपा ६३३)। °घट्ट पुं [°घट्ट] घी का मैल (बृह १)। °पुन्न पुं [°पूर्ण] घेवर, मिष्ठान विशेष (उप १४२ टी)। °पूर पुं [°र] घेवर या घोवर, मिष्ठान-विशेष (सुपा ११)। °पृसमित्त पुं [°पुप्यमित्त] एक जैन मुनि, आर्यरक्षित सूरि का एक शिष्य (आचू १)। °मंड पुं [°मण्ड] ऊपर का घी, घृतसार (जीव ३)। °मिल्लिया स्त्री [°इलिका] घी का कीट, क्षुद्र जन्तु-विशेष (जो १६)। °मेह पुं [°मेघ] घी के तुल्य पानी बरसने-वाली वर्षा (जं ३)। °वर पुं [°वर] द्वीप-विशेष (इक)। °सागर पुं [°सागर] समुद्र-विशेष (दीव)।

घयण पुं [दे] भाण्ड, भाँड़ा, भडवा (उप २०४; २७५; पंचव ४)।

घयपूस पुं [घृतपुण्य] एक जैन महर्षि (कुलक २२)।

घर पुंन [गृह] घर, मकान, गृह (हे २, १४४; ठा ५, प्रासू ७५)। °कुडी स्त्री [°कुटी] १ घर के बाहर की कोठरी। २ चौक के भीतर की कुटिया (शोष १०५)। ३ स्त्री का शरीर (तंडु)। °कोइला, °कोइलिआ स्त्री [°कोकिला] गृहगोवा, छिपकली (पिंड; सुपा ६४०)। °गोली स्त्री [°गोली] गृह-गोवा, छिपकली (दे २, १०५)। °गोहिआ स्त्री [°गोधिका] छिपकली, जन्तु-विशेष (दे २, १६)। °जामाउय पुं [°जामावृक] घर-जमाई, ससुर घर में ही हमेशा रहनेवाला जामाता (राया १, १६)। °त्य पुं [°स्थ] गृही, संसारी, घरवासी (प्रासू १३१)। °नाम न [°नामन्] असली नाम, वास्तविक नाम (महा)। °वाडय न [°पाटक] ढकी हुई जमीन वाला घर (प्रासू)। °वार न [°द्वार] घर का दरवाजा (काप्र १६५)। °सउणि

पुं [°शकुनि] पालतू जानवर (वव २)। °समुदाणिय पुं [°समुदानिक] आजीविक मत का अनुयायी साधु (शौप)। °सामि [°स्वामिन्] घर का मालिक (हे २, १४४)। °सामिणी स्त्री [°स्वामिनी] गृहिणी, स्त्री (पि ६२)। °सूर [°शूर] श्लोक शूर, भूला शूर, घर में ही बहादुरी दिखानेवाला (दे)।

घरंगण न [गृहाङ्गण] घर का आंगन, चौक (गा ४४०)।

घरकूडा स्त्री [गृहकूटा] स्त्री-शरीर (तंडु ४०)।

घरग देखो घर (जीव ३)।

घरघंट पुं [दे] चटक, गौरैया पत्नी (दे २, १०७; प्रासू)।

घरघरग पुं [दे] गला का आभूषण-विशेष (जं १)।

घरट्ट पुं [घरट्ट] जाता, चक्को, अन्न पीसने का पापाण-यन्त्र (गा ८००; सण)।

घरट्ट पुं [दे] अरघट्ट, अरघट्ट, पानी का चरखा (निचू १)।

घरट्टी स्त्री [घरट्टी] शतभ्री, तोप (दे ३, १०)।

घरणी देखो घरिणी; 'तं वरवराणि वरणि व' (७२८ टी; प्रासू ४५)।

घरयंद पुं [दे] आदर्श, दर्पण, शीशा (दे २, १०७)।

घरस पुं [दे. गृहवास] गृहाधन, गृहस्वाधन (बृह ३)।

घरसण देखो घंसण (सण)।

घरित वि [गृहवन्] घरवाला, गृहस्थ (प्राक ३५)।

घरिणी स्त्री [गृहिणी] घरवाली, स्त्री, भार्या, पत्नी (उप ७२८ टी; से २, ३८; सुर २ १००; कुमा)।

घरिण पुं [गृहिन्] गृही, संसारी, घरवासी (गा ७३६)।

घरिह्वा स्त्री [गृहिर्वा] घरवाली, स्त्री, पत्नी (कुमा)।

घरिह्नी स्त्री [दे. गृहिणी] गृहिणी, पत्नी (दे २, १०६)।

घरिस पुं [घर्ष] घर्षण, रगड़ (राया १, १६)।

घरिसण न [घर्षण] घर्षण; रगड़ (सण)। घरोइला स्त्री [दे] गृहगोवा, छिपकली; विन्दु-इया (पि १६८)।

घरोल न [दे] गृह-भोजन-विशेष (दे २, १०६)।

घरोलिया स्त्री [दे] गृहगोविका, छिपकली; घरोली स्त्री गुजराती में 'घरोली' (परह १, १; दे २, १०५)।

घलघल पुं [घलघल] 'बल-बल' आवाज, ध्वनि-विशेष (विपा १, ६)।

घल्ल सक [च.पु] फेंकना, डालना, धालना। घल्लइ, घल्लति (भवि; हे ४, ३३४; ४२२)।

घल्ल वि [दे] अनुरक्त, प्रेमी (दे २, १०५)।

घल्लय स्त्री, पुं [दे] द्वीन्द्रिय जीव की एक घल्लोय जाति (मुज ३६, १३०; उत्त ३६, १३०)।

घल्लिअ वि [क्षिप्त] फेंका हुआ, डाला हुआ (भवि)।

घल्लिअ वि [दे] वदित, निर्मित, किया हुआ; 'अइवट्टेणं तेषवि घल्लिअो तिसखल्लणगुत्वाअो' (सुपा २४६)।

घस सक [घृप्] १ घिसना, रगड़ना। २ मार्जन करना, सफा करना। घसइ (महा; पड्) संकृ. 'घसिऊण अरणिक्कट्ट' अर्गो पज्जालिअो मए पच्छा' (सुर ७, १८६)।

घस स्त्रीन [दे] १ फटो हुई जमीन, फाटवाली भूमि (आचा २, १०; २)। २ शुषिर भूमि, पोली जमीन। ३ क्षार भूमि (दस ६, ३२)।

घसण देखो घंसण (सुपा १४; दे १, १६६)।

घसणिअ वि [दे] अन्विष्ट, गवेपित (पड्)।

घसणी स्त्री [घर्षणा] सर्प-रेखा, टेढ़ी लकीर (स ३५७)।

घसा स्त्री [दे] १ पोली जमीन। २ भूमि-रेखा, लकीर (राज)।

घसिय वि [घृष्ट] घिसा हुआ, रगड़ा हुआ (दसा ५)।

घसिर वि [असितृ] बहु-भक्षक, बहुत खाने-वाला (शोष १३३ भा)।

घसी स्त्री [दे] १ भूमि-राजि, लकीर। २ नीचे उतरना, अवतरण (राज)।

घसी स्त्री [दे] जमीन का उत्तार, ढाल (आचा २, १, ५, ३)।

घसुमर वि [घस्मर] खाने की आदतवाला, लाधुक (प्राकृ २८) ।

घाड़ वि [घातिन्] घातक, नाशक, हिंसक (गा ४३७; विसे १२३८; भग) । °कम्म न [°कम्मन्] कर्म-विशेष; ज्ञानावरण, दर्शना-वरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म (अंत) । °चउक न [चतुष्क] पूर्वोक्त चार कर्म (प्राकृ) ।

घाड़अ वि [घातित्] १ मारित, विनाशित (शाया १, ८; उव) । २ घवाया हुआ, जो शक्ति-शून्य हुआ हो, सामर्थ्यरहित; 'करणाईं घाड़याईं जाया अह वेयणा मंदा' (सुर ४, २३९) ।

घाड़आ ली [घातिका] १ विनाश करनेवाली ली, मारनेवाली ली (जं २) । २ घात, हत्या । ३ घाव करना (सुर १६, १५०) ।

घाड़जमाण } देखो घाय = हन् ।  
घाड़यव्व }

घाड़यव्व देखो घाय = घातय् ।

घाड़र वि [घातिन्] सूँघनेवाला (गा ८८६) ।

घाउकाम वि [हन्तुकाम] मारने की इच्छा-वाला (शाया १, १८) ।

घाएंत देखो घाय = हन् ।

घाड अक [अश] अष्ट होना, च्युत होना । घाडइ (पड) ।

घाड पुं [घाट] १ मित्रता, सौहार्द (बृह शाया १, २) । २ मस्तक के नीचे का भाग (शाया १, ८—पत्र १३३) ।

घाडिय वि [घाटिक] वयस्य, मित्र (शाया १, २ बृह १) ।

घाडेरुय पुं [दे] खरगोश की एक जाति (?) 'जे तुह संगमुहासारज्जुनिवद्धा दुहं मए उदा । घाडेरुयससया इव अवंवणा ते पलार्यति' (उप ७२८ टी) ।

घाण पुं [दे] १ बानी, कोलह, तिल-पीड़न-यन्त्र (पिंड) । २ घान, चक्री आदि में एक वार डालने का परिमाण (सुपा १४) ।

घाण पुंन [घ्राण] नाक, नासिका; 'दो-घाणा' (पुराण १५; उप ६४८ टी; दे २, ७६) ।

घारिस पुंन [घ्रास] नासिका में होने-वाला रोग-विशेष, पीनस (श्रीघ १८४ भा) ।

घार्णिदिय न [घ्राणेन्द्रिय] नासिका, नाक (उत्त २६) ।

घाय सक [हन्] मारना, मार डालना, विनाश करना । वकृ. घाएह (उव) । वकृ. 'घाएंत रिजमंडहवे' (पजम ६०, १७) । घायंत (पजम २४; २६; विसे १७६३) । कवकृ. 'से धरो चिलाएणं चोरसेणावइणा पंचहि चोर-सएहि सदि-निहं घाड़जमाणं पासइ' (शाया १, १८) । वकृ. घाड़यव्व (पजम ६६, ३४) ।

घाय सक [घातय्] मरवाना, दूसरे द्वारा मार डालना; विनाश करवाना । वकृ. घायमाण (सूत्र २, १) । कृ. घाड़यव्व (पजम ६६, ३४) ।

घाय पुं [घात] गमन, गति (सुज १, १) ।

घाय पुं [घात] १ प्रहार, चोट, वार (पजम ५६; २५) । २ नरक (सूत्र १, ५, १) । ३ हत्या, विनाश, हिंसा (सूत्र १, १, २) । ४ संसार (सूत्र १, ७) ।

घायग वि [घातक] मार डालनेवाला, विनाशक (स २६४; सुपा २०७) ।

घायण न [हन्न] १ हत्या, नाश, हिंसा (सुपा ३४६; ३ २६) । २ वि. हिंसक, मार डालनेवाला (स १०८) ।

घायण पुं [दे] गायक, गवैया (दे २, १०८; हे २, १७४; पड) ।

घायणा ली [हन्न] मारना, हिंसा, वध (परह १, १) ।

घायय देखो घायग (विसे १७६३; स २६७) ।

घायय पुं [घातक] नरक-स्वान विशेष (देवेन्द्र २६; ३०) ।

घायावणा ली [घातना] १ मरवाना, दूसरे द्वारा मारना । २ लूटपाट मचवाना; 'बहुग्गा-मवायावणाहि ताविया' (विपा १, ३) ।

घार अक [घारय्] १ विप का फैलना, विप की असर से वेचैन होना । २ सक. विप से वेचैन करना । ३ विप से मारना । कर्म. 'घारिज्जितो य तथो विसेण' (स १८६) । हेकृ. वारिज्जितं (स १८६) ।

घार पुं-[दे] प्राकार; किला, दुर्ग (दे २, १०८) ।

घारंत पुं [दे] घृतपूर, घेवर, एक प्रकार की मीठाई (दे २, १०८) ।

घारण न [घारण] विप की असर से होने-वाली वेचैनी (सुपा १२४) ।

घारिय वि [घारित] जो विप की असर से वेचैन हुआ हो; 'तत्तथो भोगो । सव्वत्थ तदुवघाया विसघारियमोगतुल्लोत्ति' (उप ४४२); 'विसवा (? घा) रियस्स जह वो घणचन्दणकामिणीसंगो' (उवर ६७); 'विसघारियो सि घत्तूरियो सि मोहेण किं व ठगियो सि' (सुपा १२४; ४४७) ।

घारिया ली [दे] मिष्टान्न-विशेष, गुजराती में जिसे 'घारी' कहते हैं (भवि) ।

घारी ली [दे] १ शकुनिका, पक्षि-विशेष (दे २, १०७; पाश्र) । २ छन्द-विशेष (पिग) ।

घास सक [घृप्] १ घिसना । २ पीड़ा करना । कर्म. घासइ (सूत्र १, १३, १५) ।

घास पुं [घास] तृण, पशुओं को खाने का तृण (दे २, ८५; श्रौप) ।

घास पुं [घ्रास] १ कवल, कौर (श्रौप; उत्त २) । २ आहार, भोजन (आचा; श्रौघ ३३०) ।

घास पुं [घर्ष] घर्षण, रगड़; 'जो मे उवज्जि-ओ इह करव्हघसणेण चरणघासेण' (सुपा १४) ।

घासंसणा ली [घ्रासैपणा] आहार-विषयक शुद्धि अशुद्धि का पर्यालोचन (श्रौघ ३३८) ।

धि देखो घे । भवि. धिच्छिइ (विसे १०२३) । कर्म. धिपंपति (प्रासू ४) । संकृ. धित्तूण (कुमा ७, ४६) । हेकृ. धित्तुं (सुपा २०६) । कृ. धित्तव्व (सुर १४, ७७) ।

धिअ न [घृत] घी, घीव, आज्य (गा २२) ।

धिअ वि [दे] भस्मित, तिरस्कृत, अवधोरित (दे २, १०८) ।

धिं } पुं [घ्रीष्म] १ गरमी की ऋतु, घ्रीष्म  
धिसु } काल; 'धिसिसिरासे' (श्रौघ ३१० भा; उत्त २, ८; पि ६; १०१) । २ गरमी, अभिताप (सूत्र १, ४, २) ।

धिट्ट वि [दे] कुब्ज, कूबड़ा (दे २, १०८) ।

धिट्ट वि [घृष्ट] घिसा हुआ, रगड़ा हुआ (सुपा २७८; गा ६२६ अ) ।

धिणा ली [घृणा] १ जुगुप्सा, अलचि । २ दया, अनुकम्पा (हे १, १२८) ।

धिणिल्ल वि [घृणावत्] घृणावाला, नफ-रत करनेवाला (पिंड १७६) ।

चित्त (नार) वि [चित्त] केंद्रा हुआ, अला  
हुआ (भवि) ।

चित्तमण वि [प्रक्षीतुमानस्] प्रक्षण करने  
की इच्छामात्रा (सुपा २०६) ।

चित्तण } देखो वि ।  
चित्तण }

चित्त सक [प्रस्] प्रसना, निगलना, भक्षण  
करना । चित्त (हे ४, २०४) ।

चित्तरा त्री [दे] मछली पकड़ने का जाल-  
विशेष (विपा १, ६—पत्र ५५) ।

चित्तिअ वि [प्रस्त] कवलित, निगला हुआ,  
भक्षित (कुमा ७, ४६) ।

चुधुचुड पुं [दे] उत्कार, दग, डेर, समूह  
(दे २, १०६) ।

चुंठ पुं [दे] घुंठ, एक बार पीने योग्य पानी  
आदि (हे ४, ४२३) ।

चुग्घ } (अग) पुंन [चुग्घिका] कपि-चेष्टा,  
चुग्घिअ } बन्दर की चेष्टा (हे ४, ४२३;  
कुमा) ।

चुग्घुच्छण न [दे] खेद, तकलीफ, परिश्रम  
(दे २, ११०) ।

चुग्घुरि पुं [दे] मण्डक, नेक, मेढक (दे २,  
१०६) ।

चुग्घुसुअ वि [दे] निःशंक होकर गया हुआ  
(पड) ।

चुग्घुसुसय न [दे] आशंक वचन, आशंका-  
युक्त वाणी (दे २, १०६) ।

चुग्घुघुघुअ अक [चुग्घुघुघुअ] 'बुधु'  
आवाज करना, बूक या उल्लू का बोलना ।  
वक्र. चुग्घुघुघुघुअंत (पञ्च १०५, ५६) ।

चुग्घुअ अक [चुग्घुअ] ऊपर देखो । वक्र.  
चुग्घुअंत (शाया १, ६—पत्र १३३) ।

चुट्टण पुं [चुट्टक] लिपे हुए पात्र को चिसने  
का पत्थर (पिंड १५) ।

चुट्टणुणिअ न [दे] पहाड़ की बड़ी शिखा  
(दे २, ११०) ।

चुट्ट वि [चुट्ट] घोषित, ऊँची आवाज से  
जाहिर किया हुआ (पञ्च ३, ११५; भवि) ।

चुडुअ अक [गर्ज] गर्जना, गजोरव  
करना । चुडुअ (हे ४, ३६५) ।

चुण पुं [चुण] काष्ठ-मसक कीट, पुन (ठा  
४, १; विसे १५३६) ।

चुणहुणिया } जो [दे] कर्णोपकोष्ठा,  
चुणाहुणी } कलाकानी (दे २, ११०;  
महा) ।

चुणिय वि [चुणित] चुणों से बिल, पुना हुआ  
(वृह १) ।

चुण्ण देवो चुम्म । वक्र. चुण्णंत (नाट) ।

चुण्णिअ वि [चुण्णित] १ चुमां हुआ । २  
आन्त, भटका हुआ (दे ५, ४६) ।

चुत्तिअ वि [दे] नवेपित, यन्त्रेपित, खोजा  
हुआ (दे २, १०६) ।

चुन्न } देखो चुम्म । चुम्म (पिण) । वक्र.  
चुम् } चुन्नंत (पणह १, ३) ।

चुमघुमिय वि [चुमघुमित] १ जिसने 'चुम-  
घुम' आवाज किया हो वह । २ न. 'चुम-घुम'  
अन्ति: 'महुरांगीरचुमघुमियवरमदल' (सुपा  
५०) ।

चुम्म अक [चुग्] चुम्मना, चक्राकार फिरना ।  
चुम्मइ (हे ४, ११७; पड) । वक्र. चुम्मंत,  
चुम्ममाण (हेका ३३; शाया १, ६) । संक.  
चुम्मिअण (महा) ।

चुम्मण न [चुग्ण] चक्राकार भ्रमण (कुमा) ।

चुम्माविअ वि [चुग्णित] चुमाया हुआ (वजा  
१२२) ।

चुम्मिय वि [चुग्णित] चुमा हुआ, चक्र की  
तरह फिरा हुआ (सुपा ६४) ।

चुम्मिर वि [चुग्णित] चुमनेवाला, फिरनेवाला,  
चक्राकार घूमनेवाला (उप पृ ६२; गा १५०;  
गडड) ।

चुयग पुं [दे] एक तरह का पत्थर, जो पात्र  
वगैरह को चिकना करने के लिए उस पर  
चिसा जाता है, चराद या चरली (पिंड) ।

चुहुर देवो चुरुचुर । वक्र. चुहुरंत (आ  
१२) ।

चुरुअ अक [दे] चुरकना, घुड़कना, गरजना ।  
'चुरुकति वग्घा' (महा) ।

चुरुअार पुं [चुरुअार] सुअर आदि की  
आवाज (किरात ६) ।

चुरुचुर अक [चुरुचुराय] चुरचुराना, 'चुर-  
चुर' आवाज करना, व्याघ्र वगैरह का बोलना ।  
चुरुचुरंत (पि ५५५) । वक्र. चुरुचुरायंत  
(सुपा ५०५) ।

चुरुचुरि पुं [दे] मण्डक, मेढक, नेक, बंग  
(दे २, १०६) ।

चुरुचुर } देवो चुरुचुर । चुहुरइ (महा) ।  
चुरुचुर } वक्र. चुरुचुरुमाण (महा) ।

चुल देवो चुम्म । चुलइ (हे ४, ११७) ।

चुलिकि त्री [दे] हाथी की आवाज, करि-शब्द  
(पिण) ।

चुलचुल अक [चुलचुलाय] 'चुल-चुल'  
आवाज करना । वक्र. चुलचुलाअमाण (पि  
५५५) ।

चुलिअ वि [चुग्णित] चक्राकार चुमा हुआ  
(कुमा) ।

चुल्ल त्री [दे] कीट-विशेष, सूत्रीन्द्रिय जंतु की  
एक जाति (पणह १) ।

चुसण देवो चुसिण (कुमा) ।

चुसल अक [मथ] मयना, विलोडना ।  
चुसलइ (हे ४, १२१) ।

चुसलिअ वि [मथित] मथित, विलोडित  
(कुमा) ।

चुसिण न [चुसण] कुंकुम, सुगन्धित द्रव्य-  
विशेष, केसर (हे १, १२५) ।

चुसिणल्ल वि [चुसणवत्] कुंकुमवाला,  
कुंकुम-युक्त (कुमा) ।

चुसिणिअ वि [दे] नवेपित, अस्त्रिष्ट (दे २,  
१०६) ।

चुसिम न [दे] चुल्लण, कुंकुम (पड) ।

चुसिरसार न [दे] अवनतान, विवाह के अवन-  
सर में स्नान के पहले लगाया जाता मसुरादि  
का पिसान, उवटन (दे २, ११०) ।

चुसुल देवो चुसल । वक्र. चुसुलंत, चुसुलित  
(पिंड ५५७; ५७३) ।

चुसुलण न [मथन] विलोडन (पिंड ६०२) ।

चुअ पुंत्री [चुक] उल्लूक, उल्लू, पक्षि विशेष  
(शाया १, ६; पञ्च १०५, ५६) । जी. घुई  
(विपा १, ३) । 'रि पुं [रि] काक, कौआ,  
वायस (तंडु) ।

चूणाग पुं [चूणाक] स्वनाम-व्याप्त सन्निवेश-  
विशेष, ग्राम-विशेष (आचू १) ।

चूप जी [दे] १ जंघा, जाँघ । २ खलका,  
शरीर का अथवय विशेष: 'गह्माण वा चुराओ  
कर्मति' (सूअ २, २, ४५) ।

घे देवो गह = गह । घेइ (पड) । भवि.

घेउर (विसे ११२७) । कर्म. घेपइ (हे ४, २५६) । क्वक. घेप्पंत, घेप्पमाग (गा ५८१; भग; स १५२) । संक. घेऊण, घक्कूण, घेक्कूग, घेत्तुआण, घेत्तुआणां, घेत्तूण, घेत्तूणां (नाट—मालती ७१; पि ५८४; हे ४, २१०; पि; उव; प्राप्र) । हेक. घेत्तुं, घेत्तूण (हे ४, २१०; पउम; ११८, २४) । क. घेत्तव्व (हे ४, २१०; प्राप्र) ।

घेउर पुंन [दे] घेवर, घृतपूर, मिट्टान्न-विशेष; 'सा भणइ नियोहेवि हु घयघेउरभोयणं समा-कुणइ' (सुपा १३) ।

घेक्कूण देखो घे ।

घेत्तुमग वि [अहीतुमनस्] ग्रहणकरने की इच्छावाला (पउम १११, १६) ।

घेप्पं

घेप्पंत } देखो घे ।

घेप्पमाग }

घेवर [दे] देखो घेउर (दे २, १०८) ।

घोट्ट } सक [पा] पीना, पान करना ।

घोट्टय } घोट्टइ (हे ४, १०) । क्वक. घोट्ट-यंत (स २५७) । हेक. घोट्टिउं (कुमा) ।

घोड देखो घुम्म । घोडइ (से ५, १०) ।

घोड } पुंन्नी [घोट, °क] घोड़ा, अथ,

घोटग } हय (दे २, १११; पंच ५२;

घोटय } उवा; उप २०८) । २ पुं. कायो-त्सर्ग का एक दोष (पव ५) । °रक्खग पुं

[°रक्क] अथपाल, सार्द्ध (उप ५६७ टी) ।

°गीव [°गीव] अथगीव-नामक प्रतिवासुदेव, नृपविशेष (आवम) । °मुह न [°मुख] जेनेतर शास्त्र-विशेष (अणु) ।

घोडिय पुं [दे] मित्र, वयस्य (वृह ५) ।

घोडी स्त्री [घोटी] १ घोड़ी । २ वृत्त-विशेष; 'धीयल्लिघोडिवच्चूलकपरत्तइराइसंकिरणे' (स २५६) ।

घोण न [घोण] घोड़े की नाक (सण) ।

घोणस पुं [घोनस] एक प्रकार का साप (पउम ३६, १७) ।

घोणा स्त्री [घोणा] १ नाक, नासिका (पाप्र) । २ घोड़े की नाक । ३ सूअर का मुत्त-प्रदेश (से २, ६४; गउड) ।

घोर अक [घुर] निद्रा में 'घुर-घुर' आवाज करना । घोरंति (गा ८००) । क्वक. घोरंत (स ४२४; उप १०३१ टी) ।

घोर वि [दे] १ नाशित, विनाशित । २ पुं. गीघ, पक्षि-विशेष (दे २, ११२) ।

घोर वि [घोर] भयंकर, नयानक, विकट (सुअ १, ५; १; सुपा ३४५; सुर २, २४३; प्राप् १३६) । २ निर्दय; निष्ठुर (पाप्र) ।

घोरि पुं [दे] शलभ-पशु की एक जाति (दे २, १११) ।

घोल देखो घुम्म । घोलइ (हे ४, ११७) । क्वक. घोलंत (कप्प; गा ३७१; कुमा) ।

घोल सक [घोलय्] १ घिसना, रगड़ना । २ मिलाना (विसे २०४४; से ४, ५२) ।

घोल न [दे] कपड़े से छाना हुआ दही (पमा ३३) ।

घोलण न [घोलन] धर्पण, रगड़ (विसे २०४४) ।

घोलणा स्त्री [घोलना] पत्थर वगैरह का पानी की रगड़ से गोलाकार होना (स ४७) ।

घोलवड } न [दे] एक प्रकार का लघु घोलवडय } द्रव्य, दहीवड़ा (पमा ३३; या २०; सुपा ४६५) ।

घोलाविअ वि [घोलित] मिश्रित किया हुआ, मिलाया हुआ (से ४, ५२) ।

घोलिअ न [दे] १ शिलातल । २ हठ-कृत, वलात्कार (दे २, ११२) ।

घोलिअ वि [घुणित] घुमाया हुआ (पाप्र) ।

घोलिअ वि [घुणित] अत्यन्त लीन, 'अज-रक्खिओ जविणु अईव घोलिओ' (सुअ २, १३) ।

घोलिअ वि [घोलित] ग्राम की तरह घोला हुआ (सुअ २, २, ६३) ।

घोलिअ वि [घोलित] रगड़ा हुआ, मर्दित (औप) ।

घोलि वि [घुणित] घूमनेवाला, चक्काकार फिरनेवाला (गा ३३८; स ५७८; गउड) ।

घोस सक [घोपय्] १ घोपणा करना, ऊँची आवाज से जाहिर करना । २ घोखना, ऊँची आवाज से अव्ययन करना, जोर-जोर से बोल कर पढ़ना या रटना । घोसइ (हे १, २६०; प्रामा) । प्रयो. घोसावेइ (भग) ।

घोस पुं [घोप] १ ऊँची आवाज (स १०७; कुमा; गा ५४) । २ आभीर-पत्नी, अहीरों का महल्ला, अहीर टोली (हे १, २६०) । ३ गोष्ठ, गौश्रों का वाड़ा (ठा २, ४-पत्र ८६; पाप्र) । ४ स्तनितकुमार देवों की दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३) । ५ उदात्त आदि स्वर-विशेष (वव १०) । ६ अनुनाद (भग ६, १) । ७ न. देव-विमान-विशेष (सम १२, १७) । °सेण पुं [°सेन] सातवें वासुदेव का पूर्वजन्म का धर्म-गुह, एक जैन मुनि (पउम २०, १७६) ।

घोस न [घोप] लगातार ग्यारह दिनों का उपवास (संबोध ५८) ।

घोसण न [घोपण] १ ऊँची आवाज (निचू १) । २ घोपणा, ढिढोरा पिटवाकर जाहिर करना (राय) ।

घोसणा स्त्री [घोपणा] ऊपर देखो (राया १, १३; गा ५२४) ।

घोसय न [दे] धर्पण का घरा, धर्पण रखने का उपकरण-विशेष (अंत) ।

घोसाडई स्त्री [घोपातकी] लता-विशेष (पण १७—पत्र ५३०) ।

घोसाडिया देखो घोसाडई (राय ३१) ।

घोसालई } स्त्री [दे] शरद ऋतु में होने-  
घोसाली } वाली लता-विशेष (दे २, १११; पण १—पत्र ३३) ।

घोसावग न [घोपग] घोपणा, डोंडी या डुग्गी पिटवा कर जाहिर करना (उप २११ टी) ।

घोसिअ वि [घोपित] जाहिर किया हुआ (उव) ।



## च

च अ [च] अथवा, या: 'चसद्यो विगम्पेयं'  
(पंच ३, ४४) ।

च पुं [च] तालु-स्थानीय व्यञ्जन-वर्ण-विशेष  
(प्राप; प्रामा) ।

च अ [च] इन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता  
अव्यय—१ और, तथा (कुमा; हे २, २१७) ।  
२ पुनः, फिर (कम्म ४, २३; ६६; प्राप् ५) ।  
३ अत्रधारण, निश्चय (पंच १३) । ४  
नेद, विशेष (निचू १) । ५ अतिशय, आधिक्य  
(आचा; निचू ४) । ६ अनुमति, सम्मति  
(निचू १) । ७ पाद-पूर्ति, पाद-पूरण (निचू  
१) ।

चआ व्री [त्वक्] चमड़ी, त्वचा (पड्) ।  
चइअ वि [शक्ति] जो समर्थ हुआ हो, शक्त  
(से ६, ५१) ।

चइअ देखो चविअ (पउम १०३, १२६) ।

चइअ वि [त्यक्त] मुक्त, परित्यक्त (कुमा  
३, ४६) ।

चइअ वि [त्याजित] छुड़वाया हुआ, मुक्त  
कराया हुआ (शोध ११५) ।

चइअ देखो चय = त्यज् ।

चइअ देखो चु ।

चइअ देखो चेइअ (पड्) ।

चइअ } देखो चय = त्यज् ।  
चइअण }

चइअण देखो चु ।

चइत्त देखो चेइअ (हे २, १३; कुमा)

चइत्त पुं [त्वेत्र] मास-विशेष, चैत्र मास (हे  
१, १५२) ।

चइत्ता देखो चु ।

चइत्ताण } देखो चय = त्यज् ।  
चइअण्य }

चइद (श्री) वि [चक्रित] भीत, संकित (अभि  
२१३) ।

चइअण्य देखो चु ।

चउ वि [चतुर] चार, संख्या-विशेष, ४  
(उवा; कम्म ४, २; जी ३३) । आलीस व्रीन  
[चत्वारिंशत्] चौआलीस, ४४ (पि ७५;  
१६६) । अठ्ठ न [काष्ठा] चारों दिशा  
(कुमा) कट्टी व्री [काष्ठी] चौकण, चौकठ,

चौखटा, द्वार के चारों ओर का काठ, द्वार का  
ढाँचा (निचू १) । क्लोण वि [क्लोण] चार  
कोणवाला, चतुरङ्ग (एया १, १३) । ग  
न देखो चउक्क = चतुष्क (दं ३०) गइ व्री  
[गति] नरक, तिर्यंग्, मनुष्य और देव की  
योनि (कम्म ४, ६६) । गइअ वि  
[गतिक] चारों गति में भ्रमण करनेवाला  
(आ ६) । गमण न [गमन] चारों  
दिशाएँ (कप्प) । गुण, गुण वि [गुण]  
चौगुना (हे १, १७१; पड्) । चत्ता व्री  
[चत्वारिंशत्] संख्या-विशेष, चौआलीस  
(भग) । चरण पुं [चरण] चौपाया, चार  
पैर के जन्तु, पशु (उप ७६८ टी; सुपा ४०६) ।  
चूड पुं [चूड] विद्यावर वंश के एक राजा  
का नाम (पउम ५, ४५) । ठ्ठ देखो थ्य  
(हे २, ३३) । ट्ठाणवडिअ वि [स्थान-  
पतित] चार प्रकार का (भग) । णउइ व्री  
[नवति] संख्या-विशेष, चौरानवे, ६४  
(पि ४४६) । णउय वि [नवत] चौरा-  
नवेवां, ६४ वां (पउम ६४, १०६) । णवइ  
देखो णउइ (सम ६७; आ ४४) । ण  
(अप) । देखो पन्न (पिण) । तिस, तीस  
न [त्रिंशत्] चौतीस, ३४ (भग; औप) ।  
तीसइम देखो तीसइम (पउम ३४, ६१) ।  
तीसा व्री देखो तीस (प्राह) । त्तालीस  
वि [चत्वारिंश] चौआलीसवां, ४४ वां  
(पउम ४४, ६८) । तीसइम वि [त्रिंश]  
१ चौतीसवां, ३४ वां (कप्प) । २ न. सोलह  
दिनों का लगातार उपवास (एया १, १—  
पत्र ७२) । थ्य वि [थ्य] १ चौया (हे  
१, १७१) । २ पुन. उपवास (भग) ।  
थ्यंचउथ्य पुं [थंचतुर्थ] एक एक उप-  
वास (भग) । थ्यभक्त न [थ्यभक्त] एक  
दिन का उपवास (भग) । थ्यभक्तिय वि  
[थ्यभक्तिक] जिसने एक उपवास किया हो  
वह (पएह २, १) । थ्यमंगल न [थीम-  
ङ्गल] वसुधर के समागम का चतुर्थ दिन,  
जिसके बाद जामाता अकेला अपने घर जाता  
है, चौथरी (गा ६४६ अ) । थ्यी व्री [थ्यी]

१ चौथी । २ संप्रदान-विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति  
(ठा ८) । ३ तिथि-विशेष (सम ६) । दंत  
देखो दंत (राज) । दस वि. व. [दशान्]  
संख्या-विशेष, चौदह (नव २; जी ४७) ।  
दसपुञ्चि पुं [दशपूर्विन्] चौदह पूर्व  
ग्रन्थों का ज्ञानवाला मुनि (शोध २) । दसम  
वि. देखो दसम (एया १, १४) । दसहा  
अ [दशथा] चौदह प्रकार से (नव ५) ।  
दसी व्री [दशी] तिथि विशेष, चतुर्दशी  
(रयण ७१) । दंत पुं [दन्त] ऐरावत,  
इन्द्र का हाथी (कप्प) । दस देखो दस  
(भग) । दसपुञ्चि देखो दसपुञ्चि (भग  
५, ४) । दसम वि [दश] १ चौदहवां,  
१४ वां (पउम १४, १५८) । २ पुन. लगा-  
तार छः दिनों का उपवास (भग) । दसी  
देखो दसी (कप्प) । दसुत्तरसय वि  
[दशोत्तरशततम] एक सौ चौदहवां,  
११४ वां (पउम ११४, ३५) । दह देखो  
दस (पि १६६; ४४३) । दही देखो  
दसी (प्राप्र) । दिसं, दिसिं अ [दिश]  
चारों दिशाओं की तरफ, चारों दिशाओं में  
(भग; महा; वा ४, २) । द्धा अ [धा]  
चार प्रकार से (उच) । नाण न [ज्ञान]  
मति, श्रुत, अथवि और मनःपर्यंत्र ज्ञान (भग;  
महा) । नाणि वि [ज्ञानिन्] मति और रह  
चार ज्ञानवाला (सुपा ८३; ३२०) । पण  
देखो पन्न । पणइम वि [पञ्चाश] १  
चौवनवां, ५४ वां । २ न. लगातार छःवीस  
दिनों का उपवास (एया २—पत्र २५१) ।  
पन्न, पन्नास व्रीन [पञ्चासन्] चौवन,  
५४ (पउम २०, १७; सम ७२; कप्प) ।  
पन्नासइम वि [पञ्चाशत्तम] चौवनवां,  
५४ वां (पउम ५४, ४८) । पय देखो  
पपय (एया १, ८; जी २१) । पाल न  
[पाल] सूर्याम देव का प्रहरण-कोश  
(राय) । पइया, पपइया व्री [पदिका]  
१ छन्द-विशेष (पिण) । २ जन्तु-विशेष की  
एक जाति (जीव २) । पपई व्री [पदी]  
देखो पइया (सुपा १६०) । पपन्न देखो  
पन्न (सम ७२) । पपय पुं व्री [पद] १

चौपाया प्राणी, पशु (जी ३१) । २ न. ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर करण (विसे ३३५०) । °पह पुं [°पथ] चौहट्टा, चौराहा, चौरास्ता (प्रयो १००) । °पुड वि [°पुट] चार पुटवाला, चौत्तर, चौपड़ (विपा १, १) । °फाल वि [°फाल] देखो °पुड (राया १, १—पत्र ५३) । °व्वाहु वि [°वाहु] १ चार हाथवाला । २ पुं. चतुर्भुज, शीकण्य (नाट) । °मुअ [°मुज] देखो °वाहु (नाट) सूत्र १. ३, १) । °भंग पुंन [°भङ्ग] चार प्रकार, चार विभाग (ठा ४, १) । °भंगी स्त्री [°भङ्गी] चार प्रकार, चार विभाग (भग) । °भाइया स्त्री [°भागिका] चौसठ पल का एक नाप (अणु) । °मट्टिया स्त्री [°मुत्तिका] कपड़े के साय कूटो हुड़े मिट्टी (निह १८) । °मंडल्य न [°मण्डलक] लगन मण्डप, विवाह-मण्डप (सुपा ६३) । °मासिअ देखो चाउ-म्मासिअ (आ ४७) । °मुह, °मुह पुं [°मुख] १ ब्रह्मा, विधाता (पउम ११, ७२; २८, ४८) । २ वि. चार मुहवाला, चार द्वारवाला (श्रीप; सण) । °वग पुंन [°वर्ग] चार वस्तुओं का समुदाय (निह १५) । °वण्ण, °वन्न स्त्रीन [°पञ्चाशत] चौवन, पचास और चार, ५४ (पि २६५; २७३; सम ७२) । °वार वि [°द्वार] चार दरवाजेवाला (गृह) (कुमा) । °विह वि [°विध] चार प्रकार का (दं ३२; नव ३) । °वीस स्त्रीन [°विशति] चौबीस, बीस और चार. २४ (सम ४३; दं १; पि ३४) । °वीसइ (अप) । स्त्री [°विशति] बीस और चार, चौबीस (पि ४४५) । °वीसइम वि [°विशतितम] १ चौबीसवां (पउम २४, ४०) । २ न. ग्यारह दिनों का लगातार उपवास (भग) । °वग्ग देखो °वग्ग (आचा २, २) । °व्वार पुंन [°वार] चार बार, चार दफा (हे १, १७१; कुमा) । °व्विह देखो °विह (ठा ४, २) । °व्वीस देखो °वीस (सम ४३) । °व्वीसइम देखो °वीसइम (राया १, १) । °सट्टि स्त्री [°पट्टि] चौसठ, साठ और चार (सम ७१; कण) । °सट्टिम वि [°पट्टितम] चौसठवां (पउम

६४, ४७) । °स्सट्टि देखो °सट्टि (कण्) । °स्साल न [°शाल] चार शालाओं से युक्त घर (स्वप्न ५१) । °हट्ट, °हट्टय पुंन [°हट्ट; °क] चौहट्टा, बाजार (महा; आ २७; सुपा ४५५) । °हत्तर वि [°सप्तत] चौहत्तरवां, ७४ वां (पउम ७४, ४३) । °हत्तरि स्त्री [°सप्तति] चौहत्तर, सत्तर और चार (पि २४५; २६४) । °हा अ [°धा] चार प्रकार से (ठा ३, १; जी १६) । देखो चो° ।

चउक न [चतुष्क] चौकड़ी, चार वस्तुओं का समूह (सम ४०; सुर १४, ७८; सुपा १४); 'वण्णचउक्केण' (आ २३) ।

चउक [दे. चतुष्क] चौक, चौराहा, जहाँ चार रास्ता मिलता हो वह स्थान, चौमुहानी (दे ३, २; पड़; राया १, १; श्रीप; कण्; अणु; वृह १; जीव १; सुर १; ६३; भग) । २ आंगन, प्रांगण (सुर ३, ७२) ।

चउकर पुं [दे] कार्तिकेय, शिव का एक पुत्र (दे ३, ५) ।

चउकर वि [चतुष्कर] चार हाथवाला, चतुर्भुज (उत्त ८) ।

चउक्किआ स्त्री [दे. चतुष्किआ] आंगन, छोटा चौक (सुर ३, ७२) ।

चउज्जाइया स्त्री [दे] नाप-विशेष (भग ७, ८) ।

चउड पुं [चोड] देश-विशेष (सम्मत् ६०) ।

चउद देखो चउ-दस (संबोध ३३) ।

चउदह वि [चतुर्दश] चौदहवां (प्राक् ५) । स्त्री. °ही (प्राक् ५) ।

चउपंचम वि [चतुष्पञ्च] चार या पाँच (सूत्र २, २, २१) ।

चउपाडिय न [चतुष्प्रतिपत्] चार पडवा या परिवा तिथियाँ (पव १०४) ।

चउप्पाय पं [चतुष्पाद] एक दिन का उपवास (संबोध ५८) ।

चउप्फल वि [चतुष्फल] चौगुना, 'महल-वाय चउप्फललोय' (सिरी १५७) ।

चउवोल स्त्रीन [चौवोल] छन्द-विशेष (पिंग) । स्त्री. °ला (पिंग) ।

चउम्मुह पुं [चतुर्मुख] दो दिन का उपवास, °वेला (संबोध ५८) ।

चउर वि [चतुर] १ निपुण, दक्ष, होशियार

(पाम्; वेणी ६६) । २ क्लिबि. निपुणता से होशियारी से; 'किसी गायइ चउर' (ठा ७) ।

चउरंग वि [चतुरङ्ग] १ चार अंगवाला, चार विभागवाला (सैन्य वगैरह) (सण) । २ न. चार अंग, चार प्रकार (उत्त ३) ।

चउरंगय न [चतुरङ्गक] एक तरह का जुआ (मोह ८६) ।

चउरंगि वि [चतुरङ्गिन्] चार विभागवाला (सैन्य वगैरह) । स्त्री. °णी (सुपा ४५६) ।

चउरंत वि [चतुरन्त] १ चार पर्यन्तवाला, चार सीमाएँवाला । २ पुं. संसार (श्रीप) । स्त्री. °ता [°ता] पृथिवी, धरणी (ठा ४, १) ।

चउरंत न [चतुरन्त] चक्र, पहिया (वेइय ३४३) ।

चउरंस वि [चतुरस] चतुष्कोण, चार कोणवाला (भग; आचा; दं १२) ।

चउरंसा स्त्री [चतुरंसा] छन्द-विशेष (पिंग) ।

चउरय पुं [दे] चौरा, चतुतरा, गाँव का सभा-स्थान (सम १३८ टी) ।

चउरसस देखो चउरंस (विसे २७६७) ।

चउरचिध पुं [दे] सातवाहन, राजा शालि-वाहन (दे ३, ७) ।

चउराणण वि [चतुरानन] १ चार मुहवाला । २ पुं. ब्रह्मा, विधाता (गउड) ।

चउरासी } स्त्री [चतुरशीति] संख्या-विशेष,  
चउरासीइ } चौरासी, ८४ (जी ४५; सण;  
उवा; पउम २०, १०३; सम ६०; कण्) ।

चउरासीइम वि [चतुरशीतितम] चौरा-सीवाँ, ८४ वाँ (पउम ८४, १२; कण्) ।

चउरासीय स्त्रीन [चतुरशीति] चौरासी, 'चउरासीयं तु गण्णहरा तस्स उप्पन्ना' (पउम ४, ३५) ।

चउरिंदिय वि [चतुरिन्द्रिय] त्वक्, जिह्वा, नाक और श्रुति इन चार इन्द्रियवाला (जन्तु) (भग ठा १, १; जी १८) ।

चउरिमा स्त्री [चतुरिमन्] चतुरता, चतुराई, चातुर्य, निपुणता (सट्टि १६) ।

चउरिया } स्त्री [दे] लगन-मण्डप, मडवा,  
चउरी } विवाह-मण्डप; गुजराती में 'चोरी'  
(रंभा; सुपा ५५२) ।

चउरुत्तरसय वि [चतुरुत्तरशततम] एकसौ चारवाँ, १०४ वाँ (पउम १०४, ३५) ।

चउवीस वि [चतुर्विंश] चौवीसवा (पव ४६)।  
 चउवीसिना ली [चतुर्विंशिका] समय-मान-विशेष, चौवीस तीर्थकर जितने समय में होते हैं उतना काल—एक उत्सर्पिणी या एक अव-सर्पिणी-काल (महानि ४)।  
 चउवेद } वि [चतुर्वेद] चारों वेदों का  
 चउवेय } ज्ञाता, चतुर्वेदी, चौवे (धर्मसं  
 चउवेद } १२३८; मोह १०)।  
 चउसद्विआ ली [चतुःपटिका] रसवाली  
 चीज तौलने का एक माप, चार पल का एक  
 माप (अणु १५१)।  
 चउसर वि [दे] चौसर, चार सरा (लड़ी)वाला  
 (हार आदि) (सुपा ५१०; ५१२)।  
 चउहत्य पुं [चतुर्हस्त] श्रीकृष्ण (सुख ६, १)।  
 चउहार पुं [चतुराहार] चार प्रकार का  
 आहार, अशन, पान, स्नादिम और स्नादिम;  
 'कंतासिञ्जपि न संद्वेमि चउहारपरिहारो'  
 (सुपा ५७३)।  
 चओर पुंन [दे] पात्र-विशेष, 'भुत्तावसाणे  
 य आयमणवेलाए अवणीएसु चओरेसु'  
 (स २५२)।  
 चओर } पुं ली [चओर] पक्षि-विशेष  
 चओरग } (परह १, १; सुपा ३७)।  
 चओवचइय वि [चयोपचयिक] वृद्धि-  
 हानिवाला (उप २५८ टी; आचा)।  
 चंक्रम अक्र [चंक्रम] बार बार चलना।  
 २ इधर उधर घूमना। ३ बहुत मटकना।  
 ४ टेढ़ा चलना। ५ चलना-फिरना। वक्र-  
 चंक्रमंत (उप १३० टी; ६८६ टी)। हेँछ।  
 चंक्रमिं (स ३५६)। कृ. चंक्रमियव्व  
 (पि ५५६)।  
 चंक्रमण न [चंक्रमण] १ इधर उधर  
 भ्रमण। २ बहुत चलना। ३ बार बार  
 चलना। ४ टेढ़ा चलना। ५ चलना-फिरना।  
 (सम १०६; गायी १, १)।  
 चंक्रमिय वि [चंक्रमित] १ जिसने चंक्रमण  
 या भ्रमण किया हो वह। २-६ ऊपर देखो  
 (उप ७२८ टी; निचू १)।  
 चंक्रमिर वि [चंक्रमित्] चंक्रमण करनेवाला  
 (सण)।

चंक्रम अक्र [चंक्रम्य] देखो चंक्रम। वक्र-  
 चंक्रमंत, चंक्रममाण (गा ४६३; ६२३  
 उप पृ २३३; परह २, ५; कप्प)।  
 चंक्रमण देखो चंक्रमण (गाया १, १—  
 पत्र ३८)।  
 चंक्रमिअ देखो चंक्रमिअ (से ११, ६६)।  
 चंकार पुं [चकार] च वण, 'च' अक्षर  
 (ठा १०)।  
 चंग वि [दे. चङ्ग] सुन्दर, मनोहर, रम्य  
 (दे ३, १; उप पृ १२६; सुपा १०६; क  
 ३५; धम्म ६ टी, कप्प; प्राप्र; सण; भवि)।  
 चंग क्रि वि [दे] अच्छा, ठीक (२५)।  
 चंगदेव पुं [चङ्गदेव] हेमाचार्य का गृहस्था-  
 वत्या का नाम (कुप्र २०)।  
 चंगवेर पुंन [दे] काठ का तहता (आचा २,  
 ४, २, ३)।  
 चंगवेर पुं [दे] काष्ठ-पात्री, काठ का बना  
 हुआ छोटा पात्र-विशेष; 'पीढए चंगवेरे य'  
 (दस ७)।  
 चंगिम पुं ली [दे. चङ्गिमन्] सुन्दरता,  
 सौन्दर्य, श्रेष्ठता, चारुपन (नाट)। ली. 'मा  
 (विने १००; उप पृ १८१; सुपा ५; १२३;  
 २६३)।  
 चंगेरी ली [दे] टोकरी, चंगेली, डलिया,  
 कठारो, तृण आदि का बना पात्र-विशेष  
 (विसे ७१०; परह १, १)।  
 चंच देखो चंच। चंचइ (प्राकृ ६५)।  
 चंच पुं [चञ्च] १ पङ्कप्रभा नरक-पृथिवी  
 का एक नरकावास (इक)। २ न. देव-  
 विमान-विशेष (इक)।  
 चंचपुड पुंन [दे] आघात, अभिघात; 'बुर-  
 वलएचंचपुडेहि धरणिअलं अनिहणमाणं'  
 (जं ३)।  
 चंचप्पर न [दे] असत्य, झूठ, अनृत; 'चंच-  
 प्परं न भणियो' (दे ३, ४)।  
 चंचरीअ पुं [चञ्चरीक] भ्रमर, भौरा (दे  
 ३, ६)।  
 चंचल वि [चञ्चल] १ चपल, चञ्चल (कप्प;  
 चाह १)। २ पुं. रावण के एक सुभट का  
 नाम (पउम ५६, ३६)।  
 चंचला ली [चञ्चला] १ चञ्चल ली। २  
 दन्द-विशेष (पिण)।

चंचलिअ वि [चञ्चलित] चञ्चल किया  
 हुआ, 'मणयाणिलचंचे (?) च' लिअअनेतराई'  
 (विक्र २६)।  
 चंचा ली [चञ्चा] १ नरकट की चटाई।  
 २ चमरेन्द्र की राजधानी, स्वर्ग-नगरी-विशेष।  
 ३ घास का पुतला (दीव)।  
 चंचाल (अप) देखो चंचल (सण)।  
 चंचु ली [चञ्चु] चोंच, पक्षी का ठोर (दे  
 ३, २३)।  
 चंचुचिय न [दे. चञ्चुरित, चञ्चुचित]  
 कुटिल गमन, टेढ़ी चाल (श्रौप)।  
 चंचुमालइय वि [दे] रोमान्चित, पुलकित  
 (कप्प; श्रौप)।  
 चंचुय पुं [चञ्चुक] १ अनार्य देश-विशेष।  
 २ उस देश का निवासी मनुष्य (परह १, १)।  
 चंचुर वि [चञ्चुर] चपल, चंचल (कप्प)।  
 चंच सक [तक्षु] छिलना। चंचइ (पड)।  
 चंड सक [पिप्] पीसना। चंडइ (पड)।  
 चंड देखो चंद (इक)।  
 चंड वि [चण्ड] १ प्रवल, उग्र, प्रखर, तीव्र  
 (कप्प)। २ भयानक, डरावना (उत्त २६;  
 श्रौप)। ३ यति क्रोधी, क्रोध-स्वभावी (उत्त  
 १; १०; पिण; गायी १, १८)। ४ तेजस्वी,  
 तेजिल (उप पृ ३२१)। ५ पुं. राजस वंश के  
 एक राजा का नाम (पउम ५, २६४)।  
 ६ क्रोध, क्रोध (उत्त १)। 'किरण पुं  
 [किरण] सूर्य, रवि (उप पृ ३२१)।  
 'कोसिय पुं [कोशिक] एक सर्प, जिसने  
 भगवान् महावीर को सताया था (कप्प)।  
 'दीव पुं [द्वीप] द्वीप-विशेष (इक)।  
 'पञ्जोअ पुं [प्रद्योत] उज्वलनी के एक  
 प्राचीन राजा का नाम (आवम)। 'भाणु  
 पुं [भानु] सूर्य, सूरज (कुम्मा १३)। 'रुद्  
 पुं [रुद्र] प्रकृति-क्रोधी एक जैन आचार्य  
 (भाव १७)। 'वडिसय पुं [वितंसक]  
 नृप-विशेष (महा)। 'वाल पुं [पाल] नृप-  
 विशेष (कप्प)। 'सेण पुं [सेन] एक  
 राजा का नाम (कप्प)। 'लिय न [लीक]  
 क्रोध-वंश कहा हुआ भूठ (उत्त १)।  
 चंडंसु पुं [चण्डांशु] सूर्य, सूरज, रवि  
 (कप्प)।

चंडण देखो चंडणः 'चंडणं, चंडणो' (प्राह १६)।

चंडमा पुं [चन्द्रमस्] चन्द्रमा, चांद (पिंग)।

चंडा स्त्री [चण्डा] १ चमरादि इत्रो की मध्यम परिपद् (ठा ३, २; भग ४, १)। २ भगवान् वासुपुत्र्य की शासनदेवी (संति १०)।

चंडातक न [चण्डातक] स्त्री का पहनने का वस्त्र, चोली, लहंगा (दे ३, १३)।

चंडार पुं न [चं] भण्डार, भाण्डागार (कुमा)।

चंडाल पुं [चण्डाल] १ वणसंकर जाति-विशेष, शूद्र और ब्राह्मणों से उत्पन्न (आचाः सूत्र १, ८)। २ डोम (उत्त १; अणु)।

चंडालिय वि [चाण्डालिक] चण्डाल-संबन्धी, चण्डाल जाति में उत्पन्न (उत्त १)।

चंडाली स्त्री [चण्डाली] १ चण्डाल-जातीय स्त्री। २ विद्या-विशेष (पञ्च ७, १४२)।

चंडिअ वि [चं] कृत, छिन, काटा हुआ (दे ३, ३)।

चंडिक पुं न [चं, चाण्डिक्य] रोप, गुस्सा, क्रोध, रौरता (दे ३, २; पडः सम ७१)।

चंडिकिअ वि [चं, चाण्डिक्यत] १ रोप-युक्त, रौराकारवाला, भयंकर (णया १, १; परह २, २; भग ७, ८; उवा)।

चंडिज्ज पुं [चं] कोप, क्रोध, गुस्सा। २ वि. पिशुन, खल, दुर्जन (दे ३, २०)।

चंडिमं पुं स्त्री [चण्डिमन्] चण्डता, प्रचण्डता (मुपा ६६)।

चंडिया स्त्री [चण्डिका] देखो चंडी (स २६२; नाठ)।

चंडिल वि [चं] पीन, पुष्ट (दे ३, ३)।

चंडिल पुं [चण्डिल] हजाम, नापित (दे ३, २; पायः गा २६१ अ)।

चंडी स्त्री [चण्डी] १ क्रोध-युक्त स्त्री, कर्कशा और उग्र स्त्री (गा ६०८)। २ पावंती, गौरी, शिव-पत्नी (पाय)। ३ वनस्पति-विशेष (परण १)। ४ देवग वि [चं, देवक] चण्डी का मूक्त (सुग्रानि ६०)।

चंद पुं [चन्द्र] १ चन्द्र, चन्द्रमा, चांद (ठा ३, ३; प्रासू १३; ५५; पाय)। २ तप-विशेष (उप ७२८ टी)। ३ रामचन्द्र, दाशरथी राम (सं १, ३४)। ४ राम के एक सुभट का नाम (पञ्च ५६, ३८)। ५ रावण का एक सुभट

(पञ्च ५६, २)। ६ राशि-विशेष (भवि)। ७ आहादक वस्तु। ८ कपूर। ९ स्वर्ण, सोना। १० पानी, जल (हे २, १६४)। ११ एकः जैन आचार्य (गच्छ ४)। १२ एक द्वीप का नाम, द्वीप-विशेष (जीव ३)। १३ रामाश्रय की पुतली का वाय (नयन, आंख का गोला (एदि)। १४ न. देवविमान-विशेष (सम ८)। १५ चक्र पर्वत का एक शिखर (दीव)। १६ अंत देखो कंत (विक्र १३६)। १७ उक्त देखो गुत्त (मुद्रा १६८)। १८ कंत पुं [कान्त] १ मणि-विशेष (स ३६०)। २ न. देवविमान-विशेष (सम ८)। ३ वि. चन्द्र की तरह आहादक (आवम)। ४ कंता स्त्री [कान्ता] १ नगरी-विशेष (उप ६०३)। २ एक कुलकर-पुरुष की पत्नी (सम १५०)। ३ कूट न [कूट] १ देवविमान-विशेष (सम ८)। २ चक्र पर्वत का एक शिखर (ठा ८)। ३ गुत्त पुं [गुत्त] मौर्यवंश का एक स्वनाम-वित्यात राजा (विसे ८६२)। ४ चार पुं [चार] चन्द्र की गति (चंद १०)। ५ चूड, चूल पुं [चूड] विद्याधर वंश का एक स्वनाम-प्रसिद्ध राजा (पञ्च ५, ४५; दंस)। ६ च्छाय पुं [च्छाय] अंग देश का एक राजा, जिसने भगवान् मल्लिनाथ के साथ दीक्षा ली थी (णया १, ८)। ७ जसा स्त्री [जसस्] एक कुलकर-पुरुष की पत्नी (सम १५०)। ८ जस्य न [जस्य] देवविमान-विशेष (सम ८)। ९ णक्खा स्त्री [णक्खा] रावण की बहिन का नाम (पञ्च १०, १६)। १० णह पुं [णह] रावण का एक सुभट (पञ्च ५६, ३१)। ११ णही देखो णक्खा (पञ्च ७, ६८)। १२ णागरी स्त्री [णागरी] जैन मुनि-गण की एक शाखा (कण्)। १३ दरिसणिया स्त्री [दर्शनिका] उत्सव-विशेष, वचे के पहली बार के चन्द्र-दर्शन के उपलक्ष्य में किया जाता उत्सव (राज)। १४ दिण न [दिण] प्रति-पदादि तिथि (पंच ५)। १५ दीव पुं [दीव] द्वीप-विशेष (जीव ३)। १६ ध न [ध] आधा चन्द्र, अष्टमी तिथि का चन्द्र (जीव ३)। १७ षडिमा स्त्री [षडिमा] तप-विशेष (ठा २, ३)। १८ षड्ति स्त्री [षड्ति] एक जैन उपाङ्ग ग्रन्थ (ठा २, १—पत्र १२६)।

१९ षड्वय पुं [षड्वय] वक्षस्कार पर्वत-विशेष (ठा २, ३)। २० पुर न [पुर] वैताञ्ज पर्वत पर स्थित एक विद्याधर-नगर (इक)। २१ पुरी स्त्री [पुरी] नगरी-विशेष, भगवान् चन्द्रप्रभ की जन्म-भूमि (पञ्च २०, ३४)। २२ प्पभ वि [प्रभ] १ चन्द्र के तुल्य कान्तिवाला। २ पुं. आठवें जिनदेव का नाम (धर्म २)। ३ चन्द्रकान्त, मणि-विशेष (परण १)। ४ एक जैन मुनि (दंस)। ५ न. देवविमान-विशेष (सम ८)। ६ चन्द्र का सिंहासन (णया २, १)। ७ प्पभा स्त्री [प्रभा] १ चन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ४, १)। २ मदिरा-विशेष, एक जात का दाह (जीव ३)। ३ इस नाम की एक राज-कन्या (उप १०३१ टी)। ४ इस नाम की एक शिविका, जिसमें बैठकर भगवान् शीतलनाथ और महावीर-स्वामी दीक्षा के लिए बाहर निकले थे (आवम)। ५ प्पह देखो प्पभ (कण्; सम ४३)। ६ भागा स्त्री [भागा] एक नदी (ठा ५, ३)। ७ भंडल पुं न [मण्डल] १ चन्द्र का मण्डल, चन्द्र का विमान (जं ७; भग)। २ चन्द्र का विषय (परह १, ४)। ३ मग्ग पुं [मार्ग] १ चन्द्र का मण्डल-गति से परिभ्रमण। २ चन्द्र का मण्डल (सुज ११)। ३ मणि पुं [मणि] चन्द्रकान्त, मणि-विशेष (विक्र १२६)। ४ माला स्त्री [माला] १ चन्द्राकार हार, चन्द्र-हार। २ छन्द-विशेष (पिंग)। ३ मालिया स्त्री [मालिका] वही पूर्वोक्त अर्थ (शौप)। ४ मुही स्त्री [मुखी] १ चन्द्र के समान आहादक मुखवाली स्त्री। २ सीता-भुत्र कुश की पत्नी (पञ्च १०६, १२)। ३ रहु पुं [रथ] विद्याधर वंश का एक राजा (पञ्च ५, १५; ४४)। ४ रिसि पुं [रिषि] एक जैन ग्रन्थकार मुनि (पंच ५)। ५ लोस न [लोस्य] देवविमान-विशेष (सम ८)। ६ लोहा स्त्री [लोहा] १ चन्द्र की रेखा, चन्द्रकला। २ एक राज-पत्नी (ती १०)। ७ लडिसग न [लवतंसक] १ चन्द्र के विमान का नाम (चंद १८)। २ देखो चंडवडिसग (उत्त १३)। ८ वणण न [वर्ण] एक देवविमान (सम ८)। ९ वयण वि [वदन] १ चन्द्र के तुल्य आहादजनक मुखवाला। २ पुं.

राक्षस-वंश का एक राजा, एक लंकापति (पउम ५, २६६)। °चिकंप पुं [°चिकम्प] चंद्र का विकम्प-क्षेत्र (जो १०)। °विमाण न [°विमान] चंद्र का विमान (जं ७)। °विलासि वि [°विलासिन्] चंद्र के तुल्य मनोहर (राय)। °वेग पुं [°वेग] एक विद्याधर-नरेश (महा)। °संवच्छर पुं [°संवच्छर] वर्ष-विशेष, चन्द्र मासों से निष्पन्न संवत्सर (चंद्र १०)। °साला स्त्री [°शाला] अट्टालिका, अटारी (दे ३, ६)। °सालिया स्त्री [°शालिका] अट्टालिका (राया १, १)। °सिंग न [°शृङ्ग] देव-विमान-विशेष (सम ८)। °सिट्टु न [°शिष्ट] एक देवविमान (सम ८)। °सिरी स्त्री [°श्री] द्वितीय कुलकर पुत्र्य की माँ का नाम (आचू १)। °सिहर पुं [°शिखर] विद्याधर वंश का एक राजा (पउम ५, ४३)। °सूरदंसा-वणिग्या, °सूरपासणिग्या स्त्री [°सूरदर्श-निका] बालक का जन्म होने पर तीसरे दिन उसको कराया जाता चन्द्र और सूर्य का दर्शन और उसके उपलक्ष्य में किया जाता उत्सव (भग ११, ११; विपा १, २)। °सूरि पुं [°सुरि] स्वनामविख्यात एक जैन आचार्य (सण)। °सेण पुं [°सेन] १ भगवान् आदिनाथ का एक पुत्र। २ एक विद्याधर राज-कुमार (महा)। °सेहर पुं [°शेखर] १ भूप-विशेष (ती ३८)। २ महादेव, शिव (पि ३६५)। °हास पुं [°हास] खड्ग-विशेष, तलवार (से १४, ५२; गउड)।

चंद्र पुं [चन्द्र] संवत्सर-विशेष, जिसमें अधिक मास न हो वह वर्ष (सुज ११)। °उडु पुं [°उडु] कुछ अधिक उनसठ दिनों की एक ऋतु (सुज १२)। °परिवेस पुं [°परिवेप] चन्द्र-परिधि (अणु १२०)। °पपहा स्त्री [°प्रभा] देखो चंद्र-पपभा (विचार १२६; कुप्र ४५३)। °वदी स्त्री [°वती] एक नगरी (मोह ८८)।

चंद्र वि [चान्द्र] चन्द्र-संबन्धी (चंद्र १२)। °कुल न [°कुल] जैन मुनियों का एक कुल (गच्छ ४)।

चंद्रअ देखो चंद्र = चन्द्र (हे २, १६४)।

चंद्रइल्ल पुं [दे] मयूर, मोर (दे ३, ५)।

चंद्रक पुं [चन्द्राक] विद्याधर वंश का एक स्वनाम-प्रसिद्ध राजा (पउम ५, ४३)।

चंद्रग [चन्द्रक] देखो चंद्र। °विज्झ, °वेज्झ न [°वेध्य] राधावेप; 'चंद्रगविज्झं लद्धं, केवलसरिसं समाउपरिहाणं' (संथा १२२; निचू ११)।

चंद्रट्टिआ स्त्री [दे] १ भुज, शिखर, कन्धा। २ गुच्छा, स्तवक (दे ३, ६)।

चंद्रण पुं [चन्द्रन] १ एक देवविमान (देवेन्द्र १४३)। २ रत्न की एक जाति (उत्त ३६, ७७)। ३ पुं, द्वीन्द्रिय जीव-विशेष, अन्न का जीव (उत्त ३६, १३०)।

चंद्रण पुं न [चन्द्रन] १ सुगन्धित वृक्ष-विशेष, चन्दन का पेड़ (प्रागु ६)। २ न. सुगन्धित काष्ठ-विशेष, चन्दन की लकड़ी (भग ११, ११; हे २, १८२)। ३ विसा हुआ चन्दन (कुमा)। ४ छन्द-विशेष (पिग)। ५ लक पर्वत का एक शिखर (जं)। °कलस पुं [°कलश] चन्दन-चर्चित कुम्भ, माङ्गलिक घट (श्रीप)। °घड पुं [°घट] मंगल-कारक घड़ा (जीव ३)। °वाला स्त्री [°वाला] एक साध्वी स्त्री, भगवान् महावीर की प्रथम शिष्या (पडि)। °वइ पुं [°पति] स्वनाम-ख्यात एक राजा (उप ६८६ टी)।

चंद्रगग पुं न [चन्द्रनक] १ ऊपर देखो। २ पुं, द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष, जिसके कलेवर की जैन साधु लोग स्थापनाचार्य में रखते हैं (परह १, १; जो १५)।

चंद्रगा स्त्री [चन्द्रना] भगवान् महावीर की प्रथम शिष्या, चन्दनवाला (सम १५२; कण्प)।

चंद्रणि स्त्री [दे] आचमन, कुल्ला। °उयय न [°उदक] कुल्ला फेंकने की जगह (आचा २, १, ६, २)।

चंद्रणी स्त्री [दे] चन्द्र की पत्नी, रोहिणी; 'चंदो विय चंदणीजोगो' (महा)।

चंद्रम पुं [चन्द्रमस्] चन्द्रमा, चाँद (भग)।

चंद्ररुद्ध देखो चंड-रुद्ध (पंचा ११, ३५)।

चंद्रवडान्या स्त्री [दे] जिसका आधा शरीर ढका और आधा नंगा हो ऐसी स्त्री (दे ३, ७)।

चंद्रा स्त्री [चन्द्रा] चन्द्र-द्वीप की राजधानी (जीव ३)।

चंद्राअव पुं [चन्द्रातप] ज्योत्स्ना, चन्द्रिका, चन्द्र की प्रभा, चादनी (से १, २७)। देखो चंद्रायय।

चंद्राणण पुं [चन्द्रानन] ऐरवत क्षेत्र के प्रथम जिनदेव (सम १५३)।

चंद्राणणा स्त्री [चन्द्रानना] १ चन्द्र के तुल्य आहाद उत्पन्न करनेवाली, चन्द्रमुखी। २ शाश्वती-जिन-प्रतिमा-विशेष (ठा १, १)।

चंद्राभ वि [चन्द्राभ] १ चन्द्र के तुल्य आहाद-जनक। २ पुं, आठवाँ जिनदेव, चन्द्र-प्रम स्वामी (आचू २)। ३ इस नाम का एक राज-कुमार (पउम ३, ५५)। ४ न. एक देवविमान (सम १४)।

चंद्रायण न [चान्द्रायण] तप-विशेष, जिसमें चन्द्रमा के घटने-बढ़ने के अनुसार भोजन के कौर घटाने-बढ़ाने पड़ते हैं (पंचा १६)।

चंद्रायण न [चान्द्रायण] चन्द्र का छः छः मास पर दक्षिण और उत्तर दिशा में गमन (जो ११)।

चंद्रायय देखो चंद्राअव। १ आच्छादन-विशेष, वितान, चँदवा (सुर ३, ७२)।

चंद्रालग न [दे] तान्न का भाजन-विशेष (सूत्र १, ४, २)।

चंद्रावत्त न [चन्द्रावत्त] एक देवविमान (सम ८)।

चंद्राचिज्झय देखो चंद्रग-विज्झ (एदि)।

चंद्रिअ वि [चान्द्रिक] चन्द्रका, चन्द्र-संबन्धी (पव १४१)।

चंद्रिआ स्त्री [चन्द्रिका] चाँदनी, चन्द्र की प्रभा, ज्योत्स्ना (से ५, २; गा ७७)।

चंद्रिकोज्जलीय वि [दे, चन्द्रिकोज्जलित] चन्द्र-कान्ति से उज्वल बना हुआ (चंद्र)।

चंद्रिण न [दे] चन्द्रिका, चन्द्रप्रभा; 'मेहाए दाणं चंदाए, चंद्रिणं तल्वराए फलनिवहो। सणुरिसाए विहत्तं, सामन्नं सयललोआणं ॥' (श्रा १०)।

चंद्रिम देखो चंद्रम (श्रीप; कण्प)। २ एक जैन मुनि (अनु २)।

चंद्रिमा स्त्री [चन्द्रिका] चन्द्र की प्रभा, ज्योत्स्ना, चाँदनी (हे १, १८५)।

चंद्रिमाइय न [चान्द्रिक] 'जातावमंकर्या' सूत्र का एक अव्ययन (राज)।

चंदिल पुं [चन्दिल] नापित, हजाम (गा २६१; दे ३, २) ।  
 चंदुत्तरवडिसग न [चन्द्रोत्तरावतंसक] एक देवविमान (सम ८) ।  
 चंदेरी स्त्री [दे] नगरी-विशेष (ती ४५) ।  
 चंदोज्ज } न [दे] कुमुद, चन्द्र-विकाली  
 चंदोज्जय } कमल (दे ३, ४) ।  
 चंदोत्तरण न [चन्द्रोत्तरण] कौशाम्बी नगरी का एक उद्यान (विपा १, ५—पत्र ६०) ।  
 चंदोयर पुं [चन्द्रोदर] एक राज-कुमार (धम्म) ।  
 चंदोवग न [चन्द्रोपक] सन्यासी का एक उपकरण (ठा ४, २) ।  
 चंदोवराग पुं [चन्द्रोपराग] चन्द्र-ग्रहण, चन्द्रमा का ग्रहण, राहु-ग्रस्त (ठा १०; भाग ३, ६) ।  
 चंद्र देखो चंद्र (हे २, ८०; कुमा) ।  
 चंप सक [दे] चांपना, दावना, दवाना । चंपइ (आरा २५) । कम. चंपिजइ (हे ४, ३२५) ।  
 चंप सक [चर्च्] चर्चा करना । चंपइ (प्राप्) । चंक्क, चंपिऊण (वजा ६४) ।  
 चंप सक [आ + रुह] चढ़ना । चंपइ (प्राक् ७३) ।  
 चंप देखो चंपय (राय ३०) ।  
 चंपग पुंन [चम्पक] एक देवविमान (दिवेन्द्र १४२) ।  
 चंपग देखो चंपय; 'अनुवुद्धाणे पडिया, चंपग-माला न कोरइ सीसे' (आव ३) ।  
 चंपणन [दे] प्रहार, आघात; 'सरमसचर्ल-तविअण्डुडिअंगवसिधुरणिहचलणचंपणणस-मुयइआ.....धूलोजालोली' (विक्र ८४) ।  
 चंपण न [दे] चांपना, दवाना (उप १३७ टी) ।  
 चंपय पुं [चंपक] १ वृक्ष-विशेष, चम्पा का पेड़ (स १५२; भाग) । २ देव-विशेष (जीव ३) । ३ न. चम्पा का फूल (कुमा) । 'माला स्त्री [माला] १ छन्द-विशेष (पिंग) । २ चम्पा के फूलों का हार (आव ३) । 'लया स्त्री [लता] १ लताकार चम्पक वृक्ष । २ चम्पक वृक्ष की शाखा (जं १; श्रौप) । 'वण

न [वन] चम्पक वृक्षों की प्रधानतावाला वन (भाग) ।  
 चंपयवडिसय पुं [चम्पकावतंसक] सौवर्गं देवलोक में स्थित एक विमान (राय ५६) ।  
 चंपा स्त्री [चम्पा] अंग देश की राजधानी, नगरी-विशेष, जिसको आजकल 'भागलपुर' कहते हैं (विपा १, १; कम्प) । 'पुरी स्त्री [पुरी] वही अर्थ (पउम ८, १५६) ।  
 चंपा स्त्री देखो चंपय । 'कुसुम न [कुसुम] चम्पा का फूल (राय) । 'वण्ण वि [वर्ण] चम्पा के फूल के तुल्य रंगवाला, सुवर्ण-चरण । स्त्री. 'ण्णी (अप) (हे ४, ३३०) ।  
 चंपारण (अप) पुं [चम्पारण्य] १ देश-विशेष, चंपारन, तिरहुत कमिश्नरी (विहार) का एक जिला । २ चंपारन का निवासी (पिंग) ।  
 चंपिअ वि [दे] चांपा हुआ, दबाया हुआ, मंदित (सुपा १३७; १३८) ।  
 चंपिअ न [दे] आक्रमण, दबाव (तंडु ४४) ।  
 चंपिजिया स्त्री [चम्पीया] जैन मुनिगण की एक शाखा (कम्प) ।  
 चंभ पुं [दे] हल से विदारित भूमि-रेखा (दे ३, १) ।  
 चकप्पा स्त्री [दे] त्वक्, त्वचा, चमड़ी (दे ३, ३) ।  
 चक्किद देखो चइइ (कुमा) ।  
 चकोर पुंत्री [चकोर] पक्षि-विशेष, चकोर पक्षी (सुपा ४५७) । स्त्री. 'री (ख्यण ४६) ।  
 चक्क पुं [चक्क] १ पक्षि-विशेष, चक्काक पक्षि (पाय; कुमा; सण); 'तो हरिसपुलइयंगो चक्को इव दिट्टुउग्गयपयंगो' (उप ७२८ टी) । २ न. गाड़ी का पहिया (परह १, १) । ३ संमूह (सुपा १५०; कुमा) । ४ अन्न-विशेष (पउम ७२, ३१; कुमा) । ५ चक्काकार आभूषण, मस्तक का आभरण-विशेष (श्रौप) । ६ व्यूह-विशेष, सैन्य की चक्काकार रचना-विशेष (साया १, १; श्रौप) । 'कंत पुं [कान्त] देव-विशेष, स्वयंभूरमण समुद्र का अधिष्ठाता देव (दीव) । 'जोहि पुं [योधिन्] १ चक्र से लड़नेवाला योद्धा (ठा ६) । २ वासुदेव, तीन खंड पृथिवी का राजा (आव १) । 'उभय पुं [उभय] चक्र के निशानवाली ध्वजा (जं १) । 'पहु पुं [प्रभु]

चक्रवर्ती राजा (सण) । 'पाणि पुं [पाणि] १ चक्रवर्ती राजा, सम्राट् । २ वासुदेव, अर्ध-चक्रवर्ती राजा (पउम ७३, ३) । 'पुरा, 'पुरी स्त्री [पुरी] विदेह वर्ष की एक नगरी (ठा २, ३; इक) । 'पुहु देखो 'पहु (सण) । 'यर पुं [चर] भिक्षुक, भीखमंगा (उप ६१७) । 'रयण न [रत्त] अन्न-विशेष, चक्रवर्ती राजा का मुख्य आयुध (परह १, ४) । 'वइ पुं [पति] सम्राट् (पिंग) । 'वइ, 'वट्टि पुं [वर्तिन्] छः खण्ड भूमि का अधिपति राजा, सम्राट् (पिंग; सण; ठा ३, १; पडि; प्राप् १७५) । 'वट्टित्त न [वर्तित्व] सम्राट्पन, साम्राज्य (सुर ४, ६१) । 'वत्ति देखो 'वट्टि (पि २८६) । 'विजय पुं [विजय] चक्रवर्ती राजा से जीतने योग्य क्षेत्र-विशेष (ठा ८) । 'साला स्त्री [शाला] वह मकान, जहाँ तिल पेरा जाता हो, तैलिक गृह (वव १०) । 'सुह पुं [शुभ, सुख] देव-विशेष, मानुषोत्तर पर्वत का अधिपति देव (दीव) । 'सेण पुं [सेन] स्वनाम-ध्यात एक राजा (दंस) । 'हर पुं [धर] १ चक्रवर्ती राजा, सम्राट् (सम १२६; पउम २, ८५; ४, ३६; कम्प) । २ वासुदेव, अर्ध-चक्री राजा (राज) ।

चक्क न [चक्क] एक देवविमान (दिवेन्द्र १३३) ।  
 चक्कआअ देखो चक्कवाय (पि ८२) ।  
 चक्कग पुं [चक्काङ्ग] पक्षि-विशेष (सुपा ३४) ।  
 चक्कणभय न [दे] नारंगी का फल (दे ३, ७) ।  
 चक्कणाहय न [दे] ऊर्मि, तरङ्ग, कल्लोल (दे ३, ६) ।  
 चक्कम } अक [अम] धूमना, भटकना,  
 चक्कम्म } भ्रमण करना । चक्कमइ (दे २, ६) । चक्कम्मइ (हे ४, १६१) । वक्क-चक्कमत (स ६१०) ।  
 चक्कम्मविअ वि [अमित] धुमाया हुआ, फिराया हुआ (कुमा) ।  
 चक्कय देखो चक्क (परण १) ।  
 चक्कल न [दे] कुण्डल, कर्ण का आभूषण । २ दोलाफलक, हिंडोला का पटिया (दे ३, २०) । ३ वि. वत्तुल, गोलाकार पदार्थ (दे

३, २०; भवि; वजा ६४; आवन; पड्) ।  
 ४ विशाल, विस्तीर्ण (दे ३, २०; भवि) ।  
 चकलिअ वि [दे] चक्रकार किया हुआ (से  
 ११, ६८; स ३०४; गडड) । भिष्ण वि  
 [भिष्ण] गोलाकार खण्ड, गोल टुकड़ा  
 (वृह १) ।  
 चक्रवाइ व्री [चक्रवाकी] चक्रवाक-पक्षी का  
 नादा, चक्रवी, चक्रई (रंभा) ।  
 चक्रवाग १ [चक्रवाक] पक्षि-विशेष,  
 चक्रवाय १ चक्रवा (गाया १, १; पएह १,  
 १; न ३३७; कप्पु; स्वप्न ५१) ।  
 चक्रवाल न [चक्रवाल] १ चक्रकार भ्रमण,  
 'रौद्र न चक्रवालेण' (पुष्प १७८) । २  
 मण्डल, चक्रकार पदार्थ, गोल वस्तु (पएण  
 ३६; श्रौप; गाया १, १६) । ३ गोल जला-  
 शय; 'संसारचक्रवाले' (पंच ५२) । ४ गोल  
 जल-समूह, जल-राशि; 'जह सुहियचक्रवाले  
 पोयं खणभरियंसमुद्धम्मि । निजामगा धरिती'  
 (पंच ७६) । ५ आवश्यक कार्य, नित्य-कर्म  
 (पंचव ४) ६ समूह, राशि, ढेर (आउ) ।  
 ७ पुं. पर्वत-विशेष (ठा १०) । ० चिक्खंभ  
 पुं [चिक्खंभ] चक्रकार घेरा, गोल  
 परिधि (भग; ठा २, ३) । ० सामायारी व्री  
 [सामायारी] नित्य-कर्म-विशेष (पंचव ४) ।  
 चक्रवाला व्री [चक्रवाला] गोल पंक्ति,  
 चक्रकार श्रेणी (ज ७) ।  
 चक्राअ देखो चक्रवाय (हे १, ८) ।  
 चक्राग न [चक्रक] चक्रकार वस्तु, 'चक्रागं  
 भंजमाणस्त समो भंगो य दोसइ' (पएण १;  
 पि १६७) ।  
 चक्रार पुं [चक्रार] राक्षस वंश का-एक  
 राजा. एक लंकापति (पउम ५, २६३) ।  
 ० चक्र न [चक्र] शकट, गाड़ी (दस ५, १) ।  
 चक्रावाय पुं. देखो चक्रवाय 'मिलियाई  
 चक्रावायाई' (स ७६८) ।  
 चक्राह पुं [चक्राभ] चोलहर्षे जिन-देव का  
 प्रथम शिष्य (सम १५२) ।  
 चक्राहिय पुं [चक्राधिप] चक्रवर्ती राजा,  
 सम्राट् (सण) ।  
 चक्राहियइ पुं [चक्राधिपति] ऊपर देखो  
 (सण) ।

चक्रि १ वि [चक्रिन्, चक्रिक] १ चक्र-  
 चक्रिय १ वाला, चक्र-विशिष्ट । २ पुं.  
 चक्रवर्ती राजा, सम्राट् (सण) । ३ तेली ।  
 ४ कुम्हार (कप्प; श्रौप; गाया १, १) ।  
 ० साला व्री [शाली] तेल बेचने की दूकान  
 (वव ९) ।  
 चक्रिय वि [चक्रित] भयभीत, 'समुद्गंभीर-  
 समा दुरासया, अचक्रिया केणइ दुप्पहंसिया'  
 (उत्त ११) ।  
 चक्रिय पुं [चक्रिक] १ चक्र से लड़नेवाला  
 योद्धा । २ भिक्षु की एक जाति (श्रौप;  
 गाया १, १) ।  
 चक्रिया क्रि [शक्रनुयान्] सके, कर सके,  
 समयं हो सके (कप्प; कस; पि ४६५) ।  
 चक्री व्री [चक्रा] छन्द-विशेष (पिग) ।  
 चक्रकुलंडा व्री [दे] सर्प की एक जाति (दे  
 ३, ५) ।  
 चक्रेश्वर पुं [चक्रेश्वर] १ चक्रवर्ती राजा  
 (भवि) । २ विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का  
 एक जैन ग्रन्थकार मुनि (राज) ।  
 चक्रेश्वरी व्री [चक्रेश्वरी] १ भगवान् आदि-  
 नाथ की शाननदेवी (संति ६) । २ एक  
 विद्या-देवी (संति ५) ।  
 चक्रोडा व्री [दे] अग्नि-भेद, अग्नि-विशेष  
 (दे ३, २) ।  
 चक्रव (अप) सक [आ + चक्र] कहना ।  
 चक्रवइ (प्राह ११६) ।  
 चक्रव सक [आ + स्वाद्य] चखना,  
 चोखना, स्वाद लेना । चक्रवइ (पि २०२) ।  
 वक्र. चक्रवतं (गा १७१) । कवक्र.  
 चक्रिखजंत, चक्रखीअंत (पि २०२) । संक्र.  
 चक्रिखऊण (से १३, ३६) । हेक्र. चक्रिखउं  
 (वज्जा ४६) ।  
 चक्रखडिअ न [दे] जीवितव्य, जीवन (दे  
 ३, ६) ।  
 चक्रखण न [आस्वादन] आस्वादन, चोखना  
 (उप पृ २५२) ।  
 चक्रिखअ वि [अस्वादित] आस्वादित, चोखा  
 हुआ (हे ४, २५८; गा ६०३; वज्जा ४६) ।  
 चक्रिखंदिय न [चक्रिन्द्रिय] नयनेन्द्रिय,  
 आंख, चक्षु (उत्त २६, ६३) ।

चक्रु पुं [चक्षु] १ आंख, नेत्र, चक्षु  
 (हे १, ३३, नुर ३, १५३; सम १) । २  
 पुं. इस नाम का एक कुलकर पुरुष (पउम  
 ३, ५३) । ३ न. देखो नीचे 'दंसण (कम्म  
 ३, १७; ४, ६) । ४ ज्ञान, बोध (ठा ३,  
 ४) । ५ दर्शन, अवलोकन (आचा) । ० कंत  
 पुं [कान्त] देव-विशेष, कुण्डलोद समुद्र का  
 अधिष्ठाता देव (जीव ३) । ० कंता व्री  
 [कान्ता] एक कुलकर पुरुष की पत्नी  
 (सम १५०) । ० दंसण न [दर्शन] चक्षु  
 से वस्तु का सामान्य ज्ञान (सम १५) ।  
 ० दंसणवडिया व्री [दर्शनप्रतिज्ञा] आंख  
 से देखने का नियम, नयनेन्द्रिय का संयम  
 (निवृ ६; आचा २, २) । ० दय वि [दय]  
 ज्ञान-दाता (सम १; पठि) । ० पडिलेहा व्री  
 [प्रतिलेखा] आंख से देखना (निवृ १) ।  
 ० परिज्ञाण न [परिज्ञान] ह्य-विषयक  
 ज्ञान, आंख से होनेवाला ज्ञान (आचा) । ० पह  
 पुं [पथ] नेत्र-मार्ग, नयन-गोचर (पएह  
 १, ३) । ० फास पुं [स्पर्श] दर्शन, अव-  
 लोकन (श्रौप) । ० भोय वि [भीत] अत्रलोकन  
 मात्र से ही डरा हुआ (आचा) । ० म,  
 ० मंत वि [मन्] १ लोचन-युक्त,  
 आंखवाला (विते) । २ पुं. एक कुलकर पुरुष  
 का नाम (सम १५०) । ० लोल वि [लोल]  
 देखने का शौकीन, जिसकी नयनेन्द्रिय संयत  
 न हो वह (कस) । ० लोलुय वि [लोलुप]  
 वही पूर्वोक्त अर्थ (कस) । ० होयणलोरस वि  
 [लोकनलेदय] सुल्प, सुन्दर रूपवाला  
 (राय; जीव ३) । ० वित्तिहय वि [वृत्ति-  
 हत] दृष्टि से अपरिचित (वव =) । ० रसव  
 पुं [श्रवस्] सर्प, साँप (स ३३४) ।  
 चक्रखुडुण न [दे] प्रेक्षणक; तमाशा (दे  
 २, ४) ।  
 चक्रखुय देखो चक्रखुस (आवम) ।  
 चक्रखुरखणी व्री [दे] लज्जा, शर्म (दे  
 ३, ७) ।  
 चक्रखुस वि [चाक्षु] आंख से देखने योग्य  
 वस्तु, नयन-प्राप्त (पएह १, १; विसे ३३१) ।  
 चक्रखुहर वि [चक्षुहर] दर्शनीय (राय १०२) ।  
 चगोर देखो चुओर (प्राह) ।

चञ्च सक [चञ्च] चन्दन आदि का विलेपन करना। चञ्चेई (धर्मवि १५)।

चञ्च पुं [चञ्च] हेमाचार्य के पिता का नाम (कुप्र २०)।

चञ्च पुं [चञ्च] समालम्भन, चन्दन वगैरह का शरीर में उपलेप (दे ६, ७६)।

चञ्चर न [चत्वर] चौहट्टा, चौरास्ता, चौराहा, चौक (गाथा १, १; परह १, ३; सुर १, ६२; हे २, १२; कुमा)।

चञ्चरिअ पुं [दे. चञ्चरीक] भ्रमर, भौरा (पड)।

चञ्चरिया स्त्री [चञ्चरिका] १ नृत्य-विशेष (रंभा)। २ देवी चञ्चरी (स ३०७)।

चञ्चरी स्त्री [चञ्चरी] १ गीत-विशेष, एक प्रकार का गान: 'वित्थरियचञ्चरीरवमुहरियज-ज्वाणभूभागे' (सुर ३, ५४); 'पारंभियचञ्चरी-गीया' (सुपा ५५)। २ गानेवाली, टोली, गानेवालों का युथ; 'पवत्ते मयणमहसवे निगयासु विचित्तवेसासु नयरचञ्चरीसु', 'कहं नीयचञ्चरी अम्हाण चञ्चरीए समासलं परिव्वयइ' (स ४२)। ३ छन्द-विशेष (पिप)। ४ हाथ की ताली की आवाज (भाव १)।

चञ्चसा स्त्री [दे] वाद्य-विशेष, 'अट्टसयं चञ्च-साणं, अट्टसयं चञ्चसावायगाणं' (राय)।

चञ्चा स्त्री [दे] १ शरीर पर सुगन्धि पदार्थ का लगाना, विलेपन (दे ३, १६; पात्र; जं १; गाथा १, १; राय)। २ तल-प्रहार, हाथ की ताली (दे ३, १६; पड)।

चञ्चार सक [उपा + लभ] उपालम्भ देना, उलाहना देना। चञ्चारइ (पड)।

चञ्चिक वि [दे] १ मरिडत, विभूषित; 'चंडुजयचञ्चिकका दिसाउ' (दे ३, ४); 'तगुण्णहापडलचञ्चिकको' (धम्म ६ टी); 'साहू गुणरयणचञ्चिकका' (चउ ३६)। २ पुंन. विलेपन; चन्दनादि सुगन्धि वस्तु का शरीर पर मसलना (हे २, ७४); 'चञ्चिको' (पड); 'कुकुमचञ्चिकछुरियंगो' (पउम २८, २८ टी); 'पेच्छइ सुवन्नकलसं सुरचंदण-पंकचञ्चिक' (उप ७६८ टी); 'घणलेहिद-पंकचञ्चिको' (भृच्छ ११०)।

चञ्चिय वि [चञ्चित] विलिप्त (वेइय ८४५)। चञ्चुप्प सक [अर्पय] अर्पण करना, देना। चञ्चुप्पइ (हे ४, ३६)।

चञ्छ सक [तञ्] छिलना, काटना। चञ्छइ (हे ४, १६४)।

चञ्छिअ वि [तट्ट] छिला हुआ (कुमा)।

चञ्ज सक [ट्ट] देवता, अवलोकन करना। चञ्जइ (दे ३, ४; पड)।

चञ्जा स्त्री [चर्या] १ आचरण, वर्तन। २ चलन, गमन। ३ परिभाषा, संकेत (विसे २०४४)।

चञ्जिय वि [ट्ट] अवलोकित, देखा हुआ (महा)।

चट्टुअ देवां चट्टुअ (गा १६२)।

चट्ट सक [दे] चाटना, अवलेह करना; 'न य अलोणियं सिलं कोइ चट्टेइ' (महा)।

चट्ट पुंन [दे] १ भूल, दुमुसा; 'जीवति उदहिपडिया, चट्टट्टुच्छिन्ना न जीवति' (सूक्त ७०)। २ पुं. चट्टा, विद्यार्थी। 'साला स्त्री [शांला] चट्टाला, चट्टसार, छोटे बालकों की पाठशाला (वृह १)।

चांट्ट वि [चट्टिन्] चाटनेवाला (कप्पु)।

चट्टु पुं [दे] दारु-हस्त, काठ की कलछी, परोसने का पात्र-विशेष चट्टुअ (दे ३, १; गा १६२ अ)।

चड सक [आ + रुह] चढ़ना, ऊपर बैठना, आरूढ़ होना। चडइ (हे ४, २०६)। संक. चडिउं, चडिऊण (सुपा ११४; कुमा)।

चड पुं [दे] शिखा, चोटी (दे ३, १)।

चडकं पुंन [दे] १ चटकार, चटका (हे ४, ४०६; भवि)। २ शत्रु-विशेष (पउम ७, २६)।

चडकारि वि [चट्टकारिन्] 'चट्ट' शब्द करनेवाला (पवन आदि) (गउड)।

चडग देखो चडय (परण १)।

चडगर पुं [दे] १ समूह, युथ, जत्या (पउम ६०, १५; गाथा १, १—पत्र ४६)। २ आडम्बर, आटोप; 'महया चडगरतणेणं अत्यकहा हणइ' (दसनि ३)।

चडचड पुं [चडचड] 'चड-चड' आवाज (विपा १, ६)।

चडचडचड अक [चडचडाय] 'चड-चड' आवाज करना। चडचडचडति (विपा १, ६)।

चडड-पुं [चट्ट] ध्वनि-विशेष, विजली के गिरने की आवाज (सुर २, ११०)।

चडण न [आरोहण] चढ़ना, ऊपर बैठना (धा १४; प्रासु १०१; उप ७२८ टी; ओष ३०; सट्टि १४२; वज्जा ५४)।

चडपड अक [दे] चटपटाना, छटपटाना, क्लेश पाना। वृह. चडपडंत (मुद्रा ७२)।

चडय पुं स्त्री [चटक] पक्षि-विशेष, गौरैया पक्षी (दे २, १०७)। स्त्री. 'या (दे ८, ३६)।

चडवेला स्त्री देखो चवेडा (परह १, ३—पत्र ५३)।

चडावण न [आरोहण] चढ़ना (उप १५२)।

चडाविय वि [आरोहित] चढ़ाया हुआ, ऊपर स्थापित; 'रणखंभउरजिएहरे चडाविया कणायमयकलसा' (मुणि १०६०१; सुर १३, ३६; महा)।

चडाविय वि [दे] प्रेषित, भेजा हुआ; 'चाउहिंसिपि तेणं चडावियं साहणं तथा सोवि' (सुपा ३६५)।

चडिअ वि [आरूढ] चड़ा हुआ, आरूढ़ (सुपा १३७; १५३; १५६; हे ४, ४४५)।

चडिआर पुं [दे] आटोप, आडम्बर (दे ३, ५)।

चडु पुं [चट्ट] १ प्रिय वचन, प्रिय वाक्य। २ व्रती का एक आसन। ३ उदर, पेट। ४ पुंन. प्रिय संभाषण, खुशामद (हे १, ६७; प्राप्र)। 'आर वि [कार] खुशामद करने-वाला, खुशामदी (परह १, ३)। 'आरअ वि [कारक] खुशामदी (गा ६०५)।

चडुकारि वि [चट्टकारिन्] खुशामदी (पिड ४१४)।

चडुत्तरिया स्त्री [दे] १ उत्तरचढ़। २ वाद-विवाद (मोह ७)।

चडुयारि देखो चडुकारि (पिड ४८६)।

चडुल वि [चट्टुल] १ चंचल, चपल (से २, ४५; पउम ६२, १६)। २ कंपवाला, हिलता हुआ (से १, ५२)।

चडुलग वि [दे. चट्टुलक] खरड-खरड किया हुआ, 'विदुलगचडुलगच्छिन्ने' (सुधनि ७१)।



चडुला स्त्री [दे] रत्न-तिलक, सोने की मेखला में लटकता हुआ रत्न-निर्मित तिलक (दे ३, ८)।

चडुलातिलय न [दे] ऊपर देखो (दे ३, ८)।

चडुलिया स्त्री [दे] अन्त भाग में जला हुआ घास का पूला, घास की आंटी (एंदि)।

चडु सक [मृद्] मर्दन करना, मसलना। चडुइ (हे ४, १२६)। प्रयो. चडुवाए (सुपा ३३१)।

चडु सक [पिप्] पीसना। चडुइ (हे ४, १८५)।

चडु सक [भुज्] भोजन करना, खाना। चडुइ (हे ४, ११०)।

चडु न [दे] तैल-पात्र, जिसमें दीपक किया जाता है; गुजराती में 'चाडुं' (सुपा ६३८; वृह १)।

चडुण न [भोजन] १ भोजन, खाना। २ खाने की वस्तु, खाद्य-सामग्री (कुमा)।

चडुवाह्ली स्त्री [चडुवाह्ली] इस नाम की एक नगरी, जहाँ श्रीधनेश्वर मुनि ने विक्रम की ग्यारहवीं सदी में 'सुरसुंदरी-चरित्र' नामक प्राकृत-काव्य रचा था (सुर १६, २४६)।

चडुिअ वि [मृदित] मसला हुआ, जिसका मर्दन किया गया हो वह (कुमा)।

चडुिअ वि [पिष्ट] पीसा हुआ (कुमा)।

चड देखो चड = आ + रह। संक. चडिऊण (सम्मत १५६)।

चडण देखो चडण (संवेच २८)।

चण } पुं [चणक] चना, अन्न-विशेष  
चणअ } (जं ३; कुमा; गा ५५७; दे १, २१)।

चणइया स्त्री [चणकिका] मसूर, अन्न-विशेष (ठा ५, ३)।

चणग देखो चणअ (सुपा ६३१; सुर ३, १४८)। गाम पुं [ग्राम] ग्राम-विशेष, गौड़ देश का एक ग्राम (राज)। पुर न [पुर] नगर-विशेष, राजगृह-नगर का असली नाम (राज)।

चणयगाम देखो चणग-गाम (धर्मवि ३८)।

चणोट्टिया स्त्री [दे] गुंजा। गु० 'चणोट्टी', देखो कोणोट्टिया (अनु० वृ० हारि० पत्र ७६)।

चत्त पुंन [दे] तकू, तकुआ, सूत बनाने का यन्त्र, तकली (दे ३, १; धर्म २)।

चत्त वि [त्यक्त] छोड़ा हुआ, परित्यक्त (पएह २, १; कुमा १, १६)। २ सूत की आंटी (प्रनव्या० ८०, १)।

चत्तर देखो चत्तर (पि २६६; नाट)।

चत्ता देखो चत्तालीसा (जवा)।

चत्ता स्त्री [चर्चा] १ शरीर पर सुगन्धी वस्तु का विलेपन। २ विचार, चर्चा (प्राक ३८)।

चत्ताल वि [चत्वारिंश] चालीसवां (पउम ४०, १७)।

चत्तालीस न [चत्वारिंशत्] १ चालीस, ४०; 'चत्तालीसं विमाणावाससहसा परणत्तो' (सम ६६; कप्प)। २ वि. चालीस वर्ष की उम्रवाली; 'चत्तालीसस्स विनाए' (तंडु)।

चत्तालीसा स्त्री [चत्वारिंशत्] चालीस, ४०; 'तोसा चत्तालीसा' (पएण २)।

चत्थरि पुंस्त्री [दे. चत्तरि] हास, हास्य (दे ३, २)।

चपेटा स्त्री [दे. चपेटा] कराघात, थप्पड़, तमाचा (पड्)।

चप्प सक [आ + क्रम्] आक्रमण करना, दवाना। संक. चप्पिपि (भवि)।

चप्प सक [चर्च] १ अव्ययन करना। २ कहना। ३ भर्त्सना करना। ४ चन्दन आदि से विलेपन करना। चप्पइ (प्राक. ७५ संज्ञि ३५)।

चप्पडग न [दे] काष्ठ-यन्त्र-विशेष (पएह १, ३—पत्र ५३)।

चप्परण न [दे] तिरस्कार, निरास (सु ६)।

चप्पलअ वि [दे] १ असत्य, झूठा (कुमा ८, ७६)। २ बहुमिथ्यावादी, बहुत झूठ बोलने वाला (पड्)।

चप्पिय वि [आक्रान्त] आक्रान्त, दवाया हुआ (भवि)।

चप्पुडिया } स्त्री [चप्पुटिका] चपटी, चुटकी,  
चप्पुडी } अंगुष्ठ के साथ अंगुली की ताली (णया १, ३—पत्र ६५; दे ८, ४३)।

चप्फल } न [दे] शेखर-विशेष, एक तरह  
चप्फलय } का शिरोभूषण। २ वि. असत्य, झूठा, मिथ्याभाषी (दे ३, २०; हे ३, ३८; कुमा ८, २५)।

चमक पुं [चमत्कार] विस्मय, आश्चर्य; 'संजणियजणचमकको' (वम्म ६ टी; उप ७६८ टी)। चर वि [चर] विस्मय-जनक (सण)।

चमक } सक [चमत् + कृ] विस्मित  
चमकर } करना, आश्चर्यान्वित करना।  
चमककेइ, चमकंति. (विवे ४३; ४८) वक.  
चमकरंत विक्र ६६)।

चमकार पुं [चमत्कार] आश्चर्य, विस्मय (सुर १०, ८; वजा २४)।

चमकिअ वि [चमत्कृत] विस्मित, आश्चर्यान्वित (सुपा १२२)।

चमड } सक [भुज्] भोजन करना, खाना।  
चमड } चमडइ (पड्) चमडइ (हे ४, ११०)।

चमड सक [दे] १ मर्दन करना, मसलना। २ प्रहार करना। ३ कदर्यन करना, पीड़ना। ४ निन्दा करना। ५ आक्रमण करना। ६ उद्विग्न करना, खिन्न करना। कवक. चम-डिजंत (श्रीघ १२८ भा; वृह १)।

चमडण न [भोजन] भोजन, खाना (कुमा)।

चमडण न [दे] १ मर्दन, अवमर्दन (श्रीघ १८७ भा; त २२)। २ आक्रमण (स ५७६)। ३ कदर्यन, पीड़न। ४ प्रहार (श्रीघ १६३)। ५ निन्दा, गहंण (श्रीघ ७६)। ६ वि. जिसकी कदर्यना की जाय वह (श्रीघ २३७)।

चमडणा स्त्री [दे] ऊपर देखो (वृह १)।

चमडिअ वि [दे] मर्दित, विनाशित (वव २)।

चमर पुं [चमर] पशु-विशेष, जिसके बालों का चामर या चंवर बनता है; 'वराहएत्तचमरस्से-विए एणो' (पउम ६४, १०५; पएह १, १)। २ पुं. पांचवें जिनदेव का प्रथम शिष्य (सम १५२)। ३ दक्षिण दिशा के असुरकुमारों का इन्द्र (ठा २, ३)। चंच पुं [चञ्च] चमरेन्द्र का आवास-पर्वत (भग १३, ६)। चंचा स्त्री [चञ्चा] चमरेन्द्र की राजधानी, स्वर्ग-पुरी-विशेष (णया २)। पुर न [पुर] विद्याचरों का नगर-विशेष (इक)।

चमर पुंन [चामर] चंवर, चामर, बाल-व्यजन (हे १, ६७)। चारी, हारी स्त्री

[<sup>०</sup>चारिणी] चामर बीजने या डोलनेवाली स्त्री (सुपा ३३६; सुर १०, १५७)।

चमरी स्त्री [चमरी] चमर-पशु की मादा, सुरही गाय (से ७, ४८; स ४४१; श्रौष; महा)।

चमस पुंन [चमस] चमचा, कलछी, दवाँ (श्रौष; महा)।

चमुक्कार पुं [चमत्कार] १ आश्चर्य, विस्मय; 'पेच्छागयसुरकिन्नरचितचमुक्कारकारय' (सुर १३, ६७)। २ विजली का प्रकार; 'ताव य विज्जुचमुक्कारांतरं चंडचडडसंसदो' (सुर २, ११०)।

चमू स्त्री [चमू] १ सेना, सैन्य, लश्कर (आवम)। २ सेना-विशेष, जिसमें ७२६ हाथी, ७२६ रथ, २१८७ घोड़े और ३६४५ पैदल हों ऐसा लश्कर (पउम ५६, ६)।

चम्म न [चर्मन्] छाल, त्वक, चमड़ा, खाल (हे १, ३२; स्वप्न ७०; प्रासू १७१)। <sup>०</sup>क्रिड वि [<sup>०</sup>क्रिट] चमड़े से सीया हुआ (भग १३, ६)। <sup>०</sup>कोस, <sup>०</sup>कोसय पुं [कोश, <sup>०</sup>क] १ चमड़े का बना हुआ बैला २ एक तरह का चमड़े का सूता (श्रौष ७२८; आचा २, २, ३; वव ८)। <sup>०</sup>कोसिया स्त्री [<sup>०</sup>कोशिका] चमड़े की बनी हुई बैली (सूत्र २, २)। <sup>०</sup>खंडिय वि [<sup>०</sup>खण्डिक] १ चमड़े का परिवानवाला। २ सब ऊपरण चमड़े का ही रखनेवाला (शाया १, १५)।

<sup>०</sup>ग वि [<sup>०</sup>क] चमड़े का बना हुआ चर्ममय (सूत्र २, २)। <sup>०</sup>पक्खि पुं [<sup>०</sup>पक्षिन्] चमड़े की पालिवाला पक्षी (ठा ४, ४—पत्र २७१)। <sup>०</sup>पट्ट पुं [<sup>०</sup>पट्ट] चमड़े का पट्टा, वस्त्र (विपा १, ६)। <sup>०</sup>पाय न [<sup>०</sup>पात्र] चमड़े का पात्र (आचा २, ६, १)। <sup>०</sup>यर पुं [<sup>०</sup>कर] मोची, चमार (स २८६; दे २, ३७)। <sup>०</sup>रयण न [<sup>०</sup>रत्न] चक्रवर्ती का रत्न-विशेष, जिससे सुबह में बाँये हुए शालि वगैरह उसी दिन पक कर खाने योग्य हो जाते हैं (पव २१२)। <sup>०</sup>रुक्ख पुं [<sup>०</sup>वृक्ष] वृक्ष-विशेष (भग ८, ३)।

चम्मट्टि स्त्री [चर्मयष्टि] चर्म-मय यष्टि, चर्म-दाण्ड, चमड़ा लगी हुई छड़ी (कप्पु)।

चम्मट्टिअ अक [चर्मयष्टीय] चर्म-यष्टि की तरह आचरण करना। वक्क. चम्मट्टिअंत (कप्पु)।

चम्मट्टिल पुं [चर्मास्थिल] पक्षि-विशेष (परह १, १)।

चम्मर पुं [चर्मकार] चमार, मोची (विसे २६८८)।

चम्मरय पुं [चर्मकारक] ऊपर देखो (प्राप)।

चम्मिय वि [चर्मित] चर्म से बँया हुआ, चर्म-वेष्टित (श्रौष)।

चम्मेट्ट पुं [चर्मेट्ट] प्रहरण-विशेष, चमड़े से वेष्टित पापाणवाला आयुध (परह १, १)।

चम्मेट्टग पुं स्त्री [चर्मेट्टक] शस्त्र-विशेष (राय २१)। स्त्री. गा (अणु १७५)।

चय सक [त्यज्] छोड़ना, त्याग करना। चयइ (पाय; हे ४, ८६)। कर्म. चइच्चइ (उव)। वक्क. चयंत (सुपा ३८८)। संक. चइअ, चइउं, चिच्च, चइऊण, चइत्ता, चइत्ताणं, चइत्तु (कुमा; उत १८; महा; उवा; उत १)। क. चइयव्व (सुपा ११६; ४०५; ५२१)।

चय सक [शक्] सकना, समर्थ होना। चयइ (हे ४, ८६)। वक्क. चयंत (सूत्र १, ३, ३; से ६, ५०)।

चय अक [च्यु] मरना, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना। चयइ (भवि), चयति (भग)। वक्क. चयमाण (कप्पु)।

चय पुं [चय] १ शरीर, देह (विपा १, १; उवा)। २ समूह, राशि, ढेर (विसे २२१६; सुपा ५७१; कुमा)। ३ इकट्ठा होना (अणु)। ४ बुद्धि (आचा)।

चय पुं [चय] इंटों की रचना-विशेष (पिड २)।

चय पुं [चय] च्यव, जन्मान्तर-गमन (ठा ८; कप्पु)।

चय पुं [च्यव] च्यव, जन्मान्तर-गमन (ठा ८; कप्पु)।

चयण न [चयन] १ इकट्ठा करना (पव २)। २ ग्रहण, उपादान (ठा २, ४)।

चयण न [त्यजन] त्याग, परित्याग (सट्टि ३६)।

चयण न [च्यवन] १ मरण, जन्मान्तर-गमन (ठा १—पत्र १६)। २ पतन, गिर जाना। <sup>०</sup>कप्प पुं [<sup>०</sup>कल्प] १ पतन-प्रकार, चारित्र्य वगैरह से गिरने का प्रकार। २ शिथिल साधुओं का विहार (गच्छ १; पंचमा)।

चयण न [च्यवन] च्युति, भ्रंश, क्षय (तंडु ४१)।

चर सक [चर्] १ गमन करना, चलना, जाना। २ भक्षण करना। ३ सेवना। ४ जानना। चरइ (उव; महा)। भूका. चरिधु (गउड)। भवि. चरिस्सं (पि १७३)। वक्क. चरंत, चरमाण (उत २; भग; विपा १, १)। संक. चरिअ, चरिऊण (नाट—मृच्छ १०; आवम)। हेक. चरिउं, चारए (श्रौष ६५; कस)। क. चरियव्व (भग ६, ३३)। प्रयो, चारियव्व (परण १७—पत्र ४६७)।

चर पुं [चर] १ गमन, गति। २ वर्तन (दंस; आवम ३ दूत, जासूस (पाय; भवि)।

चर पुं [चर] जंगम प्राणी (कुप २४)।

<sup>०</sup>चर वि [<sup>०</sup>चर] चलनेवाला (आचा)।

चरंती स्त्री [चरन्ती] जिस दिशा में भगवान् जिनदेव वगैरह जानी पुरुष विचरते हैं वह (वव १)।

चरग पुं [चरक] १ देखो चर=चर। २ संन्यासियों का झुण्ड विशेष, युयवंध धूमने वाले त्रिदण्डियों की एक जाति (भग; गच्छ २)। ३ भिक्षुओं की एक जाति (परण २०)। ४ दश-मशकादि जन्तु (राज)।

चरचरा स्त्री [चरचरा] 'चर-चर' आवाज (स २५७)।

चरड पुं [चरट] लुटेरे की एक जाति (धम्म १२ टो; सुपा २३२; ३३३)।

चरण पुंन [चरण] १ संयम, चारित्र्य; 'सम्म-त्तनाएचरणा पत्तेयं अट्टमट्टभेइल्ला' (संबोव २२)। २ आचरण (सूत्रनि १२४)।

चरण न [चरण] १ संयम, चारित्र्य, व्रत, नियम (ठा ३, १; श्रौष २; विसे १)। २ चरना, पशुओं का तुणादि-भक्षण (सुर २, ३)। ३ पद्य का चौथा हिस्सा (पिग)। ४ गमन, विहार (एदि; सूत्र १, १०, २)। ५ सेवन, आदर (जीव २)। ६ पाद, पाँव

(३, ७) । °करण न [°करण] संयम का मूल और उत्तर गुण (सुप्र १, १ सम्म १६४) । °करणाणुओग पुं [°करणाणुओग] संयम के मूल और उत्तर गुणों की व्याख्या (निबू १५) । °कुसीलपुं [°कुसील] चारित्र को मलिन करनेवाला साधु, शिथिलाचारी साधु (पव २) । °णय [°णय] क्रिया को मुख्य माननेवाला मत (आचा) । °मोह पुंन [°मोह] चारित्र का आवारक कर्म-विशेष (कम्म १) ।

चरम वि [चरम] ? अन्तिम, अन्त का, पर्यन्तवर्ती (ठा २, ४; नग ८, ३; कम्म ३, १७; ४, १६; १७) । २ अन्तर भव में भुक्ति पानेवाला । ३ जिसका विद्यमान भव अन्तिम हो वह (ठा २, २) । °काल पुं [°काल] मरणसमय (पंचव ४) । °जलहि पुं [°जलधि] अन्तिम समुद्र, स्वयंभूरमण समुद्र (लहुअ २) ।

चरमंत पुं [चरमान्त] सब से अन्तिम, सब से प्रान्त-वर्ती (सम ६६) ।

चरय देखो चरा (श्रीप; णाया १, १५) ।

चरि पुंछो [चरि] ? पशुओं को चरने की जगह । २ चारा, पशुओं को खाने की चीज, घास (कुप्र १७) ।

चरिगा देखो चरिया = चरिका (राज) ।

चरित्त न [चरित्र] ? चरित, आचरण । २ व्यवहार (भवि; प्रासू ४०) । ३ स्वभाव, प्रकृति (कुमा) ।

चरित्त न [चरित्र] जीवन-कथा, जीवनी, कहानी (सम्मत् १२०) ।

चरित्त न [चारित्र] संयम, विरति, व्रत, नियम (ठा २, ४; ४, ४; भाग) । °कल्प पुं [°कल्प] संयमानुष्ठान को प्रतिपादक ग्रन्थ (पंचमा) । °मोह पुंन [°मोह] कर्म-विशेष, संयम का आवारक कर्म (भाग) । °मोहणिज्ज न [°मोहनीय] वही पूर्वोक्त अर्थ (ठा २, ४) । °चरित्त न [°चारित्र] आर्थिक संयम, आवक-वर्म (पडि; भाग ८, २) । °यार पुं [°यार] संयम का अनुष्ठान (पडि) । °रिय पुं [°रिय] चारित्र से आर्थ, विशुद्ध चारित्रवाला, साधु, मुनि (पण्ण १) ।

चरित्ति पुंछो [चारित्रिन्] संयमवाला, साधु, मुनि (उप ६६६; पंचव १) ।

चरिम देखो चरम (सुर १, १०; श्रीप; नग; ठा २, ४) ।

चरिय पुं [चरक] चर-पुत्र, जासूस, दूत (सुपा ५२८) ।

चरिय न [चरित] ? चेषित, आचरण (श्रीप; प्रासू ८६) । २ जीवनी, जीवन-चरित (सुपा २) । ३ चरित-ग्रन्थ (सुपा ६५८) । ४ सेवित, आश्रित (पण्ण १, ३) ।

चरिया स्त्री [चरिका] ? परिव्राजिका, संन्यासिनी (श्रीप ५६८) । २ किला और नगर के बीच का मार्ग (सम १३७; पण्ण १, १) ।

चरिया स्त्री [चर्या] ? आचरण, अनुष्ठान, 'दुक्करचरिया मुणिवराणं' (पञ्च १४, १५२) । २ गमन, गति, विहार (सुप्र १, १, ४) । ३ गाड़ी (आख्या० पत्र ११ गा. ६८) ।

चरीया देखो चरिया = चर्या; 'तणफातो चरीया व दंसेकारस जोगिनु' (पंच ४, २०) ।

चरु पुं [चरु] स्वाली-विशेष, पात्र-विशेष (श्रीप; भवि) ।

चरुगिणय देखो चारुङ्गय (इक) ।

चरुल्लेय न [दे] नाम, आख्या (दे ३, ६) ।

चल सक [चल्] ? चलना, गमन करना । २ अक. कांपना, हिलना । चलइ (महा; गडड) । वड्. चलंत, चलमाण (गा ३५६; सुर ३, ४०; भाग) । हेड्. चलित्तं (गा ४८४) । प्रयो. संक. चलइत्ता (दस ५, १) ।

चल वि [चल] ? चंचल, अस्थिर (स ४२०; वजा ६६) । २ पुं. रावण का एक सुभट (पञ्च ५६, ३६) ।

चलचल वि [चलचल] ? चंचल, अस्थिर; 'चलचलयकोडिमोडणकराई नयणाई तरुणोणं' (वजा ६०) । २ पुं. घी में तजी जाती हुई चीज का पहला तीन घान (निबू ४) ।

चलण पुं [चरण] पांव, पैर, पाद (श्रीप; से ६, १३) । °मालिया स्त्री [°मालिका] पैर का आभूषण-विशेष (पण्ण २, ५; श्रीप) । °वण्डण न [°वण्डण] पैर पर तिर भुका कर प्रणाम, प्रणाम-विशेष (पञ्च ८, २०६) ।

चलण न [चलन] चलना, गति, चाल, प्रया, रियाज (सि ६, १३) ।

चलणा स्त्री [चलना] ? चलन, गति । २ कथ, हिलन (भाग १६, ६) ।

चलणाउह पुं [चरणायुध] कुक्कुट, मुग्रां (दे ३, ७) ।

चलणाओह पुं [दे चरणायुध] ऊपर देखो (पड्) ।

चलणिया स्त्री [चलनिका] नीच देखो (श्रीप ६७६) ।

चलणिया } स्त्री [चलनिका, °नी] जैन  
चलणी } साधियों को पहनने का कटि-  
वस्त्र (पत्र ६२) ।

चलणी स्त्री [चलनी] ? साधियों का एक उपकरण (श्रीप ३१५ भा) । २ पैर तक का कीच (जीव ३; नग ७, ६) ।

चलप्रलण न [दे] चटपटाई, चंचलता (पठम १०२, ६) ।

चलाचल वि [चलाचल] चंचल, अस्थिर (पठम ११२, ६) ।

चल्लिदिय वि [चल्लेन्द्रिय] इन्द्रिय-निग्रह करने में असमर्थ, जिसकी इन्द्रियों काबू में न हो वह (आचा २, ५, १) ।

चल्लिअ न [चलित] ? विकलता, अस्थैयं, चंचलता (पात्र) । २ वि. चला हुआ, कम्पित (आयन) । ३ प्रवृत्त (पात्र; श्रीप) । ४ विनष्ट (वम्म २) ।

चल्लि वि [चल्लि] चलनेवाला, अस्थिर, चपल, चंचल; 'चल्लिरममरालो' (उप ६८६; सुपा ७६; २५७; स ४१) ।

चल्ल देखो चल = चल । चल्लइ (हे ४, २३१; पड्) ।

चल्लणग न [दे] जघनांशुक, कटि-वस्त्र (पड्) ।

चल्लि स्त्री [दे] नाचते समय की एक प्रकार की गति (कम्पू) ।

चल्लि स्त्री [दे] मदन-वेदना (संति ४७) ।

चल्लिअ देखो चल्लिअ (सुर २, ६१; ज्व पृ ५०) ।

चव सक [कथय] कहना, बोलना । चवई (हे ४, २) । कर्म. चविज्जइ (कुमा) । वड्. चवंत (भवि) ।

चव अक [च्यु] मरना, जन्मान्तर में जाना ।  
 चवइ (हे ४, २३३) । संक. चविऊण  
 (प्राह) । क. चवियन्व (ठा ३, ३) ।  
 चव पुं [च्यव] मरण, मौत; 'मन्ता अपुण-  
 चव', (उत्त ३, १४) ।  
 चवचव पुं [चवचव] 'चव-चव' आवाज,  
 ध्वनि-विशेष (शोध २८६ भा) ।  
 चवण न [च्यवण] १ मरण, जन्मान्तर-प्राप्ति  
 (सुर २, १३६; ७, ८; दं ४) । २ पतन,  
 गिर जाना (बृह १) ।  
 चवल वि [चपल] १ चंचल, अस्थिर (सुर  
 १२, १३८; प्राप् १०३) । २ आकुल, व्या-  
 कुल (शोध) । ३ पुं. रावण का एक सुभट  
 (पउम ५६, ३६) ।  
 चवल पुं [दे] अन्न-विशेष, बौड़ा (आ १८) ।  
 चवल्य पुं [दे] धान्य-विशेष, गुजराती में  
 'चाळा' (पव १५४) ।  
 चवला स्त्री [चपला] विद्युत्, विजली (जीव  
 ३) ।  
 चविअ वि [च्युत] मृत, जन्मान्तर-प्राप्त  
 (कुमा २, २६) ।  
 चविअ वि [कथित] उक्त, कहा हुआ (भवि) ।  
 चविआ स्त्री [चविका] वनस्पति-विशेष  
 (प्राण १७—पत्र ५३१) ।  
 चविडा } स्त्री [चपेटा] तमाचा, थप्पड़  
 चविला } (हे १, १४६; कुमा) ।  
 चवेला }  
 चवेडी स्त्री [दे] १ श्लिष्ट कर-संपुट । २ संपुट,  
 समुद्र, डब्बा (दे ३, ३) ।  
 चवेण न [दे] वचनीय, लोकापवाद (दे ३,  
 ३) ।  
 चवेला देखो चविडा (प्राह) ।  
 चव्य सक [चर्व] चवाना (संक्षि ३४) ।  
 चव्य (शौ) देखो चच्च = चच्च । चव्वदि (प्राह  
 ६३) ।  
 चव्वकिअ वि [दे] धवलित, चुने से पोता  
 हुआ; 'चव्वकिअ य चुन्नेण नासिया (सुपा  
 ४५५) ।  
 चव्वण न [चर्वण] चवाना (दे ७, ८२) ।  
 चव्वाइ देखो चव्वागि (राज) ।  
 चव्वाक } पुं [चार्वाक] नास्तिक, बृहस्पति  
 चव्वाग } का शिष्य, लोकायतिक (प्रवो  
 ७८; राज) ।

चव्वागि वि [चार्वाकिन्] १ चवानेवाला ।  
 २ दुर्व्यवहारी (वव ३) ।  
 चव्विय वि [चर्वित] चवाया हुआ (सुर  
 १३, १२३) ।  
 चस सक [चप्] चखना, आस्वाद लेना ।  
 चसं (शौ) (रंभा) । हेक. चसिटुं  
 (शौ) (रंभा) ।  
 चसग } पुं [चचक] १ दाह पीने का प्याला  
 चसय } (जं ५; पाअ) । २ पान-पात्र, प्याला  
 (सुर २, ११; पउम ११३, १०) । ३ पक्षि-  
 विशेष (दे ६, १४५) ।  
 चहुंतिया स्त्री [दे] चूटकी, चूटकीभर; 'जोग-  
 उएणचहुंतियामेत्तपक्खेवेण' (काल) ।  
 चहुट्ट अक [दे] चिपकना, चिपटना, लगना;  
 गुजराती में 'चोट्टु'; 'दे मूठ तुह अकज्जे  
 लीलाइ चहुट्टए जहा चित्तं' (संवेग १६) ।  
 चहुट्टइ (कुप्र २४६) ।  
 चहुट्ट वि [दे] १ निमग्न, लीन (दे ३, २;  
 वजा ३८); 'मण-भमरो-पुण तीए मुहारविदे-  
 चिय चहुट्टो' (उप ७२८ टी) ।  
 चहुट्ट } वि [दे] चिपका हुआ, लगा  
 चहुट्टिय } हुआ (धर्मवि १४१; उप ७२८  
 टी; कुप्र २७) ।  
 चहोड पुं [दे] एक मनुष्य-जाति (भवि) ।  
 चाइ वि [त्यागिन्] १ त्याग करनेवाला,  
 छोड़नेवाला । २ दानी, दान देनेवाला, उदार  
 (सुर १, २१७; ४, ११८) । ३ निःसंग,  
 निरीह, संयमी (आचा) ।  
 चाइय वि [त्याजित] छोड़वाया हुआ (धर्मवि  
 ८) ।  
 चाइय वि [शक्ति] जो समर्थ हुआ हो  
 (पउम ७, १२१; सूत्र १, १४); 'सव्वोवा-  
 एहि जया वेत्तूण न चाइया सुरिदेणं । ताहे  
 ते नेरइया' (पउम ११८, २४) ।  
 चाउअंगी स्त्री [चार्वाङ्गी] सुन्दर अंगवाली  
 स्त्री (प्राह २६) ।  
 चाउअंड पुं [चामुण्ड] राक्षस-वंश का एक  
 राजा, एक लङ्का-पति (पउम ५, २६३) ।  
 चाउकाल न [चतुष्काल] चार वक्त, चार  
 समय (विसे २५७६) ।  
 चाउक्कोण वि [चतुष्कोण] चार कोनावाला,  
 चतुरस्र (जीव ३) ।

चाउअण्ट } वि [चतुर्घण्ट] चार घंटावाला,  
 चाउअण्ट } चार घण्टाओं से युक्त (आया  
 १, १; भग ६, ३३; निर १) ।  
 चाउज्जाम न [चातुर्याम] चार महान्नत,  
 साधु-वर्म—ग्रहिसा, सत्य, अस्तेय और अपरि-  
 ग्रह ये चार साधु-व्रत (आया १, ७; ठा ४,  
 १) ।  
 चाउज्जाय न [चातुर्जात] दालचीनी, तमा-  
 लपत्र, इलायची और नागकेसर (उप पृ  
 १०६; महा) ।  
 चाउत्थिय देखो चाउत्थिय (उत्तनि ३) ।  
 चाउत्थिय पुं [चातुर्थिक] रोग विशेष, चौथे-  
 चौथे दिन पर होनेवाला ज्वर, चौथिया  
 बुझार (जीव ३) ।  
 चाउइसिया स्त्री [चतुर्दशिका] तिथि-विशेष,  
 चतुर्दशी, चौदस; 'हीणपुएणचाउइसिया'  
 (उवा) ।  
 चाउइसी स्त्री [चतुर्दशी] ऊपर देखो (भग-  
 जो ३) ।  
 चाउइहाह (अप) वि. व. [चतुर्दशान्]  
 चौदह, १४ (पिग) ।  
 चाउइसिं देखो चउ-इसिं (महा; सुपा ३६५)  
 चाउप्पाय न [चतुष्पाद] चतुर्विध, चार  
 प्रकार का (उत्त २०, २३; सुख २०, २३) ।  
 चाउमास } पुं [चातुर्मास] १ चौमासा,  
 चाउम्मास } जैसे आषाढ़ से लेकर कार्तिक  
 तक के चार महीने (उप पृ ३६०; पंचा  
 १७) । २ आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन  
 मास की शुक्ल चतुर्दशी; 'पक्खिए चाउमासे'  
 (लहुअ १६) ।  
 चाउम्मासिअ वि [चातुर्मासिक] १ चार  
 मास सम्बन्धी, जैसे आषाढ़ से लेकर कार्तिक  
 तक के चार महीने से सम्बन्ध रखनेवाला  
 (आया १, ५; सुर १४, २२८) । २ न.  
 आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मास की शुक्ल  
 चतुर्दशी तिथि, पर्व-विशेष (आ ४७; अजि  
 ३८) ।  
 चाउम्मासी स्त्री [चातुर्मासी] चार मास,  
 चौमासा, आषाढ़ से कार्तिक, कार्तिक से  
 फाल्गुन और फाल्गुन से आषाढ़ तक के चार  
 महीने (पउम ११८, ५८) ।

चाउम्मासी स्त्री [चातुर्मासी] देखो चाउ-  
म्मासिअ (वर्ष २; श्राव) ।

चाउरंग देखो चउरंग (पउम २, ७५) ।

चाउरंगि देखो चउरंगि (भग; शाया १,  
१—पत्र ३२) ।

चाउरंगिज वि [चतुरङ्गीय] १ चार श्रंगों  
से सम्बन्ध रखनेवाला । २ न. 'उत्तराध्ययन'  
सूत्र का एक अध्ययन (उत्त ४) ।

चाउरंत देखो चउरंत (सम १; ठा ३, १;  
हे १, ४४) ।

चाउरंत पुं [चातुरन्त] १ चक्रवर्ती राजा,  
सम्राट् (पह १, ४) २ न. लग्न-मण्डप,  
चौरी (स ७८) ।

चाउरंत न [चातुरन्त] भरत-क्षेत्र, भारतवर्ष  
(चिइय ३४०, ३४१) ।

चाउरंत न [चतुरन्त] चक्र, पहिया (चिइय  
३४४) ।

चाउरक वि [चातुरक्य] चार वार परिणत ।  
'गोखीर न [गोक्षीर] चार वार परिणत  
किया हुआ गो-दूध, जैसे कतिपय गौश्रों का  
दूध दूसरे गौश्रों को पिलाया जाय, फिर  
उनका श्रय गौश्रों को, इस तरह चार वार  
परिणत किया हुआ गो-दुग्ध (जीव ३) ।

चाउल वि [दे] चावल का, 'तहेव चाउलं  
पिट्टं' (दस ५, २, २२) ।

चाउल पुं [दे] चावल, तरबुल, (दे ३, ८;  
आत्ता २, १, ३; ६; ८; उप पृ २३१;  
श्रौच ३४४; सुपा ६३६; रयण ६०; कप्य) ।

चाउल्लग न [दे] पुरुष का पुतला—कृत्रिम  
पुह्य (निचू १) ।

चाउयण देखो चाउवन्न (सम्मत्त १६२) ।

चाउवन्न } वि [चातुर्वर्ण्य] १ चार वर्ण-  
चाउवण्ण } वाला, चार प्रकार वाला । २  
पुं. साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका का  
समुदाय (ठा ५, २—पत्र ३२१); 'चाउव-  
ण्णस्स समणसंघस्स' (पउम ६०, १२०) ।  
३ न. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये  
चार मनुष्य-जाति (भग १५) ।

चाउव्विज्ज देखो चाउव्वेज्ज (ती ७) ।

चाउव्वेज्ज न [चातुर्वेद्य] १ चार प्रकार  
की विद्या—न्याय, व्याकरण, साहित्य और  
वर्ग-शास्त्र । २ पुं. चौबे, ब्राह्मणों का एक

श्रल्ल—उपगोत्र या वर्ग; 'पउरचाउव्वेज्जलोएण'  
(महा) ।

चाउस्साला स्त्री [चतुश्शाला] चारों तरफ  
के कमराश्रों से युक्त घर (पव १३३ टी) ।

चाएंत देखो चाय = चय ।

चाँउंडा स्त्री [चानुण्डा] स्वनाम-व्याप्त देवी  
(हे १, १७४) । 'काउअ पुं [°कामुक]  
महादेव, शिव (कुमा) ।

चाग देखो चाय = ध्याग (पंचय १) ।

चागि देखो चाइ (उप पृ १०५) ।

चाड वि [दे] मायावी, कपटी (दे ३, ८) ।  
चाडु पुंन [चाटु] १ प्रियवाक्य । २ बुधामद  
(हे १, ६७; प्राप्र) । 'धार वि [°कार]  
बुधामदी (पह १, २) ।

चाडुअ न [चाटुक] ऊपर देखो; कुमा) ।

चाणक पुं [चाणक्य] १ राजा चन्द्रगुप्त का  
स्वनाम-प्रसिद्ध मन्त्री (मुद्रा १४४) । २ एक  
मनुष्य-जाति (भवि) ।

चाणकी स्त्री [चाणक्या] लिपि-विशेष (विते  
४६४ टी) ।

चाणिक देखो चाणक (आक) ।

चाणूर पुं [चाणूर] मल्ल-विशेष, जिसको  
श्रीकृष्ण ने मारा था (पह १, ४; पिंग) ।

चामर पुंन [चामर] चंवर, बाल-व्यजन (हे  
१, ६७) । २ छन्द-विशेष (पिंग) । 'गाहि  
वि [°ग्राहिन्] चामर बीजनेवाला नौकर ।

स्त्री. 'गी (भवि) । 'छ्वायण न [°च्छ्वायन]  
स्वाति नक्षत्र का गोत्र (इक) । 'उक्कय पुं  
[°श्वज] चामर-युक्त पताका (श्रौप) ।

'धार वि [°धार] चामर बीजनेवाला (पउम  
८०, ३८) ।

चामरच्छ न [चामरथ्य] गोत्र-विशेष (सुज्ज  
१०, १६) ।

चामरा स्त्री. ऊपर देखो (श्रौप; वनु; भग ६,  
३३) ।

चामीअर न [चामीकर] सुवर्ण, सोना  
(पाप्र; सुपा ७७; शाया १, ४) ।

चामुंडराय पुं [चामुण्डराज] गुजरात का  
एक चौलुक्य वंश का राजा (कुप्र ४) ।

चामुंडा देखो चाँउंडा (विते; पि) ।

चाय देखो चय = शक् । वक्र. चार्यत्त,  
चाएंत (सुप्र १, ३, १; वव १) ।

चाय देखो चाव (सुपा ५३०; स १४, १५;  
पिंग) ।

चाय पुं [ध्याग] १ छोड़ना, परित्याग (प्राप्र  
८; पंचय १) । २ दान (सुर १, ६५) ।

चायग } पुं [चातक] पति-विशेष, चातक-  
चायव } पत्नी (सण; पाप्र; दे ६, ६०) ।

चार ऋक [चारय्] चराना, खिलाना ।  
चारेइ (यमंवि १४३) ।

चार पुं [चार] १ गति, गमन; 'पायचारेण'  
(महा; उप पृ १२३; रयण १५) । २ भ्रमण,  
परिभ्रमण (स १६) । ३ चर-गुरुव, जानूस  
(विपा १, ३; महा; भवि) । ४ कारागार,  
कैदखाना (भवि) । ५ संचार, संचरण  
(श्रौप) । ६ अनुष्ठान, प्राचरण (प्राचानि  
४५; महा) । ७ ज्योतिष-क्षेत्र, आकाश (ठा  
२, २) ।

चार पुं [दे] १ वृक्ष-विशेष, पियाल वृक्ष.  
चिरींजी का पेड़ (दे ३, २१; अणु; पणु  
१६) । २ वन्दन-स्नान (दे ३, २१) । ३  
इच्छा, भ्रमिलाप (दे ३, २१, भवि; सुपा  
५११) । ४ न. फल-विशेष, मेवा-विशेष  
(पणु १६) । 'वकय पुं [°कय] वेचने-  
वाले की इच्छानुसार दान देकर खरीदना  
(सुपा ५११) ।

चारए देखो चर = चर् ।

चारग दे [चारक] देखो चार (श्रौप; शाया  
१, १; पह १, ३; उव ३५७ टी) । 'पाल  
पुं [°पाल] जेलखाना का अध्यक्ष (विपा १,  
६—पत्र ६५) । 'पालमा पुं [°पालक]  
कैदखाना का अध्यक्ष; जेलर (उप पृ ३३७) ।

'भंड न [°भाण्ड] कैदी को शिक्षा करने  
का उपकरण (विपा १, ६) । 'हिचि पुं  
[°धिप] कैदखाना का अध्यक्ष, जेलर (उप  
पृ ३३७) ।

चारण पुं [दे] ग्रन्थि-च्छेदक, पाकिटमार, त्रोर-  
विशेष (दे ३, ६) ।

चारण पुं [चारण] १ आकाश में गमन करने  
की शक्ति रखनेवाले जैन मुनियों की एक  
जाति (श्रौप; सुर २, १५; अजि १६) । २  
मनुष्य-जाति-विशेष, स्तुति करनेवाली जाति  
भाट (उप ७६८ टी; प्रामा) । ३ एक जैन  
मुनि-गण (ठा ६) ।

चारणिआ लो [चारणिका] गणित-विशेष (श्रौव २१ टी)।

चारभड पुं [चारभट] शूर पुरुष, लड़किया, सैनिक (परह १, २; १, ३; वृह १)।

चारभड पुं [चारभट] लुटेरा (पिड ५७६)।

चारय देखो चारग (सुपा २०७; ल १५)।

चारवाय पुं [दे] शीघ्र ऋतु का पवन (दे ३, ६)।

चारहड देखो चारभड (वम्म १२ टी, भवि)।

चारहडी लो [चारभटी] शौर्यवृत्ति, सैनिक-वृत्ति (सुपा ४४१; ४४२; हे ४, ३६६)।

चारागार न [चारागार] कैदखाना, जेलखाना (सुर १६, १७)।

चारि लो [चारि] चारा, पशुओं के खाने की चीज, घास आदि (श्रौष २३८)।

चारि वि [चारिन्] १ प्रवृत्ति करनेवाला। (विसे २४३ टी; उव; आचा)। २ चलने वाला, गमन-शील (श्रौष; कप्प)।

चारिअ वि [चारित] १ जिसको खिलाया गया हो वह (से २, २७)। २ विज्ञापित, बताया हुआ (परण १७—पत्र ४६७)।

चारिअ पुं [चारिक] १ चर पुरुष, जासूस (परह १, २; पउम २६, ६५); 'चोरवृत्ति चोरिवृत्ति य होइ जसो परदारगामित्ति' (विसे २३७३)। २ पंचायत का मुखिया पुरुष, समुदाय का अग्रज (स ४०६)।

चारित्त देखो चरित्त = चारित्त (श्रौष ६ भा; उप ६७७ टी)।

चारित्ति देखो चरित्ति (पुफ १५४)।

चारियव्व देखो चर = चर।

चारिया लो [चर्या] १ आचरण, इधर-उधर गमन, जीविका। २ चेष्टा (उत्त १६, ८१; ८२; ८४; ८५)।

चारी लो [चारी] देखो चारि = चारि (स ४८७; श्रौष २३८ टी)।

चारु वि [चारु] १ सुन्दर, शोभन, प्रवर (उवा; श्रौष)। २ पुं. तीसरे जिनदेव का प्रथम शिष्य (सम १५२)। ३ न. प्रहरण-विशेष, शस्त्र-विशेष (जीव १; राय)।

चारुणय पुं [चारुणिक] १ देश-विशेष। २ वि. उस देश का निवासी (श्रौष; अंत)। लो. णिया (श्रौष)।

चारुणय पुं [चारुणिक] ऊपर देखो (श्रौष)। लो. णिया (श्रौष; णया १, १)।

चारुवच्चि पुं. व. [चारुवत्ति] देश-विशेष (पउम ६८, ६४)।

चारुसेणी लो [चारुसेनी] छन्द-विशेष (पिंग)।

चाल सक [चालय्] १ चलाना, हिलाना, कँपाना। २ विनाश करना। चालेइ (उव; स ४७४; महा)। कर्म. चालिज्जइ (उव)। बह. चालंत, चालेमाण (सुपा २२४; जीव ३)। कवक. चालिज्जमाण (णया १, १)। हेह. चालित्तए (उवा)।

चालण न [चालन] १ चलाना, हिलाना (रंभा)। २ विचार (विसे १००७)।

चालण न [चालन] शंका, प्रश्न, पूर्वपक्ष (चिइय २७१)।

चालणा लो [चालना] शंका, पूर्वपक्ष, आक्षेप (श्रणु; वृह १)।

चालणया लो [चालनिका] नीचे देखो (उप १३४ टी)।

चालणी लो [चालनी] आखा, छानने का पात्र चलनी या छलनी (आवम)।

चालवास पुं [दे] सिर का भूषण-विशेष (दे ३, ८)।

चालिय वि [चालित] चलाया हुआ, हिलाया हुआ; 'पुष्कवइए चालियाए सियसंकेयपडागाए' (महा)।

चालिर वि [चालयित्] १ चलानेवाला। २ चलनेवाला; 'खरपवणचाडुवालिरदवग्गिस-रिसेण पेम्मेण' (वज्जा ७०)।

चाली लो [चत्वारिंशत्] चालीस, ४० (उवा)।

चालीस लो [चत्वारिंशत्] चालीस, ४० (महा; पिंग) लो. सा (ति ५)।

चालुक पुं [चौलुक्य] १ चालुक्य वंश में उत्पन्न। २ पुं. गुजरात का प्रसिद्ध राजा कुमारपाल (कुमा)।

चाव सक [चर्व] चवाना। कृ. चावयव्व (उत्त १६, ३८)।

चाव पुं [चाप] धनुष, कामुक (स्वप्न ५५)।

चावल न [चापल] चपलता, चंचलता (अभि २४१)।

चावल न [चापल्य] ऊपर देखो (स ५२६)। चावाली लो [चावाली] ग्राम-विशेष, इस नाम का एक गाँव (आवम)।

चाविय वि [चर्वित] चवाया हुआ (वर्मवि ४६; १४६)।

चाविय वि [चययित] मरवाया हुआ (परह २, १)।

चावेडी लो [चापेटी] विद्या-विशेष, जिससे दूसरे को तमाचा मारने पर वीमार आदमी का रोग चला जाता है (वव ५)।

चावेयव्व देखो चाव = चर्व।

चावोणय न [चापोन्नत] विमान-विशेष, एक देव-विमान (सम ३६)।

चास पुं [चाप] पक्षि-विशेष, स्वर्ण-चातक, पपीहा, लहटोरवा (परह १, १; परण १७; णया १, १; श्रौष ८४ भा; उर १, १४)।

चास पुं [दे] चास, हस्त-विदारित भूमि-रेखा, खेती (दे ३, १)।

चाह सक [वाञ्छ] १ चाहना, वाञ्छना। २ अपेक्षा करना। ३ याचना। चाहइ, चाहसि (भवि; पिंग)।

चाहिणी लो [चाहिनी] हेमाचार्य की माता का नाम (कुप्र २०)।

चाहिय वि [वाञ्छित] १ वाञ्छित, अभिलषित। २ अपेक्षित। ३ याचित (भवि)।

चाहुआम पुं [चाहुयान] १ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश, चौहान वंश। २ पुं. चौहान वंश में उत्पन्न (सुपा ५५६)।

चि देखो चिण। कर्म. चिच्चइ, चिम्मइ, चिज्जंति (हे ४, २४३; भग)।

चिअ अ [एव] निश्चय की बतलानेवाला अव्यय; 'अणवद्धं तं चिअ कामिणीण' (हे २, १८४; कुमा; गा १६, ४६; दं १)।

चिअ अ [इव] १—२ उपमा और उत्प्रेक्षा का सूचक अव्यय (प्राप्र)।

चिअ वि [चित] १ इकट्ठा किया हुआ (भग)। २ व्याप्त (सुपा २४१)। ३ पुष्ट, मांसल (उप ८७५ टी)।

चिअ न [चित] इंट आदि का ढेर (अणु १५४)।

चिअ देखो चित्त = चित्त प्राक २६)।

चिआ ली [त्विप्] कान्ति, तेज, प्रभा (पङ्.)।

चिआ देखो चियगा (सुपा २४१; महा)।

चिइ ली [चिति] १ उपचय, पुष्टि, वृद्धि (पत्र २)। २ इकट्ठा करना (उत्त ६)। ३ वृद्धि, मेधा (पात्र)। ४ भीत बगैरह बनाना। ५ चिता (पएह १, १—पत्र ८)। ०कम्म न [०कर्मन्] बन्दन, प्रणाम-विशेष (आव ३)।

चिइ देखो चेइअ (उप ५६७; चैत्य १२; पंचा १)।

चिइगा देखा चियगा (जं १)।

चिइच्छ सक [चिक्रिस्] १ दवा करना, इलाज करना। २ शंका करना, संशय करना। चिइच्छइ (हे २, २१; ४, २४०)।

चिइच्छअ वि [चिक्रिसक] १ दवा करनेवाला, इलाज करनेवाला। २ पुं. वैद्य (मा ३३)।

चिइय देखो चितिय; 'जेण एस सुचरियतवोवि सुचिइयजिण्णियवयणोवि' (महा)।

चिउर पुं [चिकुर] १ केश, बाल (गा १८८)। २ पीत रंग का गन्धद्रव्य-विशेष (पएण १७—पत्र ५२८; राय)।

चिच } सक [मण्डय्] विभूषित करना,  
चिचअ } अलंकृत करना। चिचइ, चिचअइ (हे ४, ११५; पङ्.)।

चिचइअ वि [मण्डित] शोभित, विभूषित, अलंकृत (पउम १५, १३; सुपा ८८; महा; पात्र; प्राप; कुमा)।

चिचइअ वि [दे] चलित, चला हुआ (दे ३, १३)।

चिचणिआ } ली [दे] देखो चिचिणी (कुमा;  
चिचणिगा } सुपा १२; ५८३)।  
चिचिणी }

चिचिणी ली [दे] धरट्टिका, अन्न पीसने की चक्की (दे ३, १०)।

चिचा ली [चच्चा] १ तृण की बनाई हुई चटाई बगैरह। ०पुरिस पुं [०पुर्य] तृण का मनुष्य, जो पशु, पक्षी आदि को डराने के लिए खेतों में गाड़ा जाता है (सुपा १२४)।

चिचा ली [दे. चिच्चा] झमली का पेड़ (दे ३, १०; पात्र; विपा १, ६; सुपा १२४; ५८२; ५८३)।

चिचिअ वि [मण्डित] भूषित, अलंकृत (कुमा)।

चिचिणिआ } ली [दे] झमली का पेड़  
चिचिणिचिचा } (श्रोप २६; दे ३, १०;  
चिचिणी } सुपा ५८४; पात्र)।

चिचिह सक [मण्डय्] विभूषित करना, अलंकृत करना। चिचिल्लइ (हे ४, ११५; पङ्.)।

चिचिह्लिअ वि [मण्डित] विभूषित, अलंकृत, संवारा हुआ (पात्र; कुमा)।

चित सक [चिन्तय्] १ चिन्ता करना, विचार करना। २ याद करना। ३ ध्यान करना। ४ फीफिर करना, अफसोस करना। चितेद, चितेमि (उव; कुमा)। वक. चितंत, चितंत, चितित, चितयंत, चितयमाण, चितेमाण (कुमा; उव; पउम १०, ४; अग्नि ५७; हे ४, ३२२; ३१०, सुर ४, २३)। कवक. चितिजंत (गा ६५१)। संक. चितिउं, चितिऊण (महा; गा ३५८)। क. चितणीय, चितियव्व, चितियव्व (उव ७३२; पंचा २; पउम ३१, ७७; सुपा ४४५)।

चित वि [चिन्त्य] चिन्तनीय, विचारणीय, विचार-योग्य (उप ६८५)।

चितग वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला, विचारक (उप पृ ३३३; ३३६ टी)।

चितण न [चिन्तन] १ विचार, पर्यालोचन (महा)। २ स्मरण, स्मृति (उत्त ३२; महा)।

चितणा ली [चिन्तना] ऊपर देखो (उप ६८६ टी)।

चितणिया ली [चिन्तनिका] याद करना, चिन्तन करना (ठा ५, ३)।

चितय वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला (उप ५६५; निर १, १)।

चितव देखो चित = चितय्। चितवइ (कुमा; भवि)।

चितविय वि [चिन्तित] जिसकी चिता की गई हो वह (भवि)।

चिता ली [चिन्ता] १ विचार, पर्यालोचन (पात्र; कुमा)। २ अफसोस, शोक, दिलगीरी (सुर २, १६१; नूय २, १; प्रायू ६१)। ३ ध्यान (आव ४)। ४ स्मृति, स्मरण (अग्नि)। ५ इष्ट-प्राप्ति का संदेह (कुमा)। ०उर वि [०तुर] शोक से व्याकुल (सुर ३, ११६)। ०दिह् वि [दृष्ट] विचार-पूर्वक देखा हुआ (पात्र)। ०मइअ वि [०मय] चिन्ता-युक्त; 'सप्रणे वितामइअं काज्जण पिअं' (गा १३३)। ०मणि पुं [०मणि] १ मनो-वाञ्छित अर्थ को देनेवाला स्तन-विशेष, दिव्य मणि (महा)। २ वीतशोक नगरी का एक राजा (पउम २०, १४२)। ०धर वि [०धर] चिन्ता-भंग (पउम १०, १३)।

चितायग } वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला  
चितायग } (आवन)। ली. ०गा (सुपा २१)।

चितिय वि [चिन्तित] १ विचारित, पर्यालोचित (महा)। २ याद किया हुआ, स्मृत (गाया १, १; पङ्.)। ३ जिसको चिता उत्पन्न हुई हो वह (जोव ३; श्रोप)। ४ न. स्मरण, स्मृति (भग ६, ३३; श्रोप)।

चितिर वि [चिन्तयित्] चिन्ताशील, चिन्ता करनेवाला (आ २७; सण)।

चिच न [चिह्] १ चिह्न, लान्छन, निशानी (हे २, ५०; प्रात्र; गाया १, १६)। २ वज्रा, पताका (पात्र)। ०पट्ट पुं [०पट्ट] निशानी ह्य वज्र-वज्राड (गाया १, १)। ०पुरिस पुं [०पुर्य] १ दाढ़ी-भूँड़ बगैरह पुरुष की निशानी वाला नपुंसक, हिजड़ा। २ पुरुष का वेप धारण करनेवाली ली बगैरह (ठा ३, १)।

चिधाल वि [चिह्वान्] चिह्वयुक्त, निशानी-वाला (पउम १०६, ७)।

चिधाल वि [दे] १ रज्य, सुन्दर, मनोहर। २ मुख्य, प्रधान, प्रवर (दे ३, २२)।

चिधिय वि [चिहित] चिह्व-युक्त (पि २६७)।

चिफुहणी ली [दे] ली का पहनने का वस्त्र-विशेष, लहंगा (दे ३, १३)।

चिक्रिच्छ देखो चिइच्छ। चिक्रिच्छानि (उप ४८५)। क. चिक्रिच्छिअव्व (अग्नि-१६७)।

चिकुर देखो चिउर (पि ५०६)।

चिक्र वि [दे] १ स्तोक, बोड़ा, अल्प । २ न. सुत, छोक (पङ्) ।

चिक्रण वि [चिक्रण] चिकना, स्निग्ध (परह १, १; सुपा ११) । २ निविड, घना; 'जं पावं चिक्रणं तए वट्टं' (सुर १४, २०६) । ३ दुर्बल, दुःख से छूटने योग्य (परह १, १) ।

चिक्रा स्त्री [दे] १ बोड़ी चीज । २ हलकी मेघ-भृष्टि, सूक्ष्म छोटि (दे ३, २१) ।

चिक्रार पुं [चीरकार] चिल्लाहट, चिघाड़ (सण) ।

चिक्रिण देखो चिक्रण (कुमा) ।

चिक्रखअग वि [दे] सहिष्णु, सहन करने वाला (पङ्) ।

चिक्रखल्ल पुं [दे] कदम, पंक, कीच (दे ३, ११; हे ३, १४२; परह १, १) ।

चिक्रखल्लय न [चिक्रखल्लक] काठियावाड़ का एक नगर (ती २) ।

चिक्रिखल्ल [दे] देखो चिक्रखल्ल (गा ६७; चिखल्ल ३२४; ४४५; ६८४; औप) ।

चिगिचिगाय अक [चिक्रचिकाय] चक-चकाट करना, चमकना । वक्र. चिगिचिगायंत (सुर २, ८६) ।

चिगिच्छग देखो चिइच्छअ (विवे ३०) ।

चिगिच्छण न [चिक्रित्सन] चिकित्सा, इलाज (उप १३५ टी) ।

चिगिच्छय देखो चिइच्छअ (स २७८; णाय १, ५—पत्र १११) ।

चिगिच्छा स्त्री [चिक्रित्सा] दवा, प्रतीकार, इलाज (स १७) । °संहिया स्त्री [°संहिता] चिकित्सा-शास्त्र, वैद्यक-शास्त्र (स १७) ।

चिच्च वि [दे] १ चिपटी नासिकावाला, बौठी हुई नाकवाला (दे ३, ६) । २ न. रमण, संभोग, रति (दे ३, १०) ।

चिच्च वि [त्याज्य] छोड़ने योग्य, परिहरणीय; 'खरकम्माई पि चिच्चाई' (सुपा ४६८) ।

चिच्चर वि [दे] चिपटी नासिकावाला (दे ३, ६) ।

चिच्चा देखो चय = त्यज् ।

चिच्चि पुं [चिच्चि] चीत्कार, चिल्लाहट, भयंकर आवाज; 'चिच्चोसर'—(विपा १, २—पत्र २६) ।

चिच्चि पुं [दे] हुताशन, अग्नि (दे ३, १०) । चिट्ठं अ [दे] अत्यन्त, अतिशय (आचा १, ४, २, २) ।

चिट्ठ अक [स्था] बैठना, स्थिति करना । चिट्ठइ (हे १, १६) । भूका. चिट्ठिमु (आचा) । वक्र. चिट्ठंत, चिट्ठेमाण (कुमा; भग) । संक्र. चिट्ठिउं, चिट्ठिऊण, चिट्ठिण, चिट्ठित्ता, चिट्ठित्ताण (कप्प; हे ४, १६; राज; पि) । हेक. चिट्ठित्तए (कप्प) । क. चिट्ठिणिल्लं, चिट्ठिअव्व (उप २६४ टी; भग) ।

चिट्ठ देखो चेह्ठ । वक्र. चिट्ठमाण (पंचा २) ।

चिट्ठइत्तु वि [स्थात्] बैठनेवाला, ठहरनेवाला (भग ११, ११; दसा ३) ।

चिट्ठण न [स्थान] बड़ा रहना (पव २) ।

चिट्ठण न [चेटन] चेष्टा, प्रयत्न (हि २२) ।

चिट्ठणा स्त्री [स्थान] स्थिति, बैठना, अवस्थान (वृह ६) ।

चिट्ठा देखो चेह्ठा (सुर ४, २४५; प्रासू १२५) ।

चिट्ठिय वि [चेष्टित] १ जिसने चेष्टा की हो वह (परह १, ३; णाय १, १) । २ न. चेष्टा, प्रयत्न, (परह २, ४) ।

चिट्ठिय वि [स्थित] १ अवस्थित, रहा हुआ । २ न. अवस्थान, स्थिति (चंद २०) ।

चिट्ठिग पुं [चिट्ठिक] पक्षि-विशेष (परह १, १) ।

चिण तक [चि] १ इकट्ठा करना । २ फूल वगैरह तोड़कर इकट्ठा करना । चिणइ (हे ४, २३८) । भूका. चिण्णिमु (भग) । भवि. चिण्णिहिइ (हे ४, २४३) । कर्म. चिण्णिज्जइ (हे ४, २४२) । संक्र. चिण्णिऊण, चिण्णेऊण (पङ्) ।

चिण देखो चण (आ १८) ।

चिण देखो चित्त (प्राकृ २६) ।

चिणिअ वि [चित] इकट्ठा किया हुआ (सुपा ३२३; कुमा) ।

चिणोटी स्त्री [दे] गुंजा, घुँघची, लाल रत्ती, गुजराती में 'चणोठी' (दे ३, १२) ।

चिण्ण वि [चीर्ण] १ आचरित, अनुष्ठित (उत्त १३) । २ अंगोच्छ्रित, आहत (उत्त ३१) । ३ विहित, कृत (उत्त १३) ।

चिण्ह न [चिह्] निशानी, लोहक (हे २, ५०; गउड) ।

चित्त सक [चित्रय्] चित्र बनाना, तसवीर खींचना । चित्तेइ (महा) । कवकू चित्तिज्जंत (उप पृ ३४१) ।

चित्त न [चित्त] १ मन, अन्तःकरण, हृदय (ठा ४, १; प्रासू ६१; १५५) । २ ज्ञान, चेतना (आचा) । ३ बुद्धि, मति (अव ४) । ४ अभिप्राय, आशय (आचा) । ५ उपयोग, ब्याल (अणु) । °ण्णु वि [°ज्ञ] दिल का जानकार (उप पृ १७६) । °निवाइ वि [°निपातिन्] अभिप्राय के अनुसार वरतनेवाला (आचा) । °मंत वि [°वत्] सजीव वस्तु (सम ३६; आचा) ।

चित्त देखो चइत्त = चैत्र (रंभा; जं २; कप्प) ।

चित्त न [चित्र] १ छवि, आलेख्य, तसवीर (सुर १, ८६; स्वप्न १३१) । २ आश्चर्य, विस्मय (उत्त १३) । ३ काष्ठ-विशेष (अनु ५) । ४ वि. विलक्षण, विचित्र (गा ६१२; प्रासू ४२) । ५ अनेक प्रकार का, विविध, नानाविध (ठा १०) । ६ अद्भुत, आश्चर्य-जनक (विपा १, ६; कप्प) । ७ कवरा, चित्तकवरा (णाय १, ८) । ८ पुं. एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७) । ९ पर्वत-विशेष (परह १, ५—पत्र ६४) । १० चित्रक, चीता, शवापद विशेष (णाय १, १—पत्र ६५) । ११ नक्षत्र-विशेष, चित्रा नक्षत्र; 'हृत्यो चित्तो य तथा, दस बुद्धिकराइं नाणस्स' (सम १७) । °उत्त पुं [°गुप्त] भरत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (सम १५४) । °कणगा स्त्री [°कनका] देवी-विशेष, एक विद्युत्कुमारी देवी (ठा ४, १) । °कम्म न [°कर्मन्] आलेख्य, छवि, तसवीर (गा ६१२) । °कर देखो °गर (अणु) । °कह वि [°कथ] नाना प्रकार की कथाएँ कहनेवाला (उत्त ३) । °कूड पुं [°कूट] १ सीतानदी के उत्तर किनारे पर स्थित एक वक्षस्कार-पर्वत (जं ४) । २ पर्वत-विशेष (पउम ३३, ६) । ३ न. नगर-विशेष, जो आजकल मेवाड़ में 'चित्तौड़' नाम से प्रसिद्ध है (रण ६२) । ४ शिवर-विशेष (ठा २, ३) । °कखरा स्त्री [°क्षरा] छन्द-विशेष



(अजि २७)। गंर पुं [°कर] चित्रकार, चितेरा (सुर १, १०४; शाया १, ८)। गुत्ता ली [°गुत्ता] ? देवी-विशेष, सोम-नामक लोकपाल की एक अग्र-महिषी (ठा ४, १)। २ दक्षिण ल्वक पर्वत पर वसनेवाली एक दिक्कुमारी, देवी-विशेष (ठा ८)। पक्ख पुं [°पक्ख] ? वेणु-देव नामक इन्द्र का एक लोकपाल, देव-विशेष (ठा ४, १)। २ बुद्ध जन्तु-विशेष, चतुरिन्द्रिय कीट-विशेष (जीव १)। फल, फलगा, फलय न [°फलक] तसवीरवाला तक्षता (महाः भग १५; पि ५१९)। भित्ति ली [°भित्ति] ? चित्रवाली भित्ति। २ ली की तसवीर (दस ८)। थर देखो गंर (शाया १, ८)। रस पुं [°रस] भोजन देनेवाली कल्पवृत्तों की एक जाति (सम १७; पउम १०२, १२२)। लेहा ली [°लेखा] छन्द-विशेष (अजि १३)। संभूइय न [°संभूतीय] चित्र और संभूत नामक चाण्डाल-विशेष के वृत्तान्त वाला 'उत्तराव्ययनसूत्र' का एक अव्ययन (उत्त १२)। सभा ली [°सभा] तसवीरवाला गृह (शाया १, ८)। साला ली [°शाला] चित्र-गृह (हेका ३३२)। चित्तंग पुं [°चित्तंग] पुष्प देनेवाले कल्पवृत्तों की एक जाति (सम १७)। चित्तंग देखो चित्त = चित्र (उप पृ ३०)। चित्तजाणुअ देखो चित्त-णुणु (प्राकृ १८)। चित्तठिअ वि [°दे] परितोपित, खुश किया हुआ (दे ३, १२)। चित्तण न [°चित्तण] चित्र-कर्म (धर्मांवि ३४)। चित्तदाउ पुं [°दे] मधु-मटल, मधपुड़ा (दे ३, १२)। चित्तपत्तय पुं [°चित्तपत्तय] चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (उत्त ३६, १४९)। चित्तपरिच्छेय वि [°दे] लघु, छोटा (भग, ७, ९)। चित्तय देखो चित्त = चित्र (पाय)। चित्तयलया ली [°चित्तयलया] बल्ली-विशेष (हम्मौर २८)। चित्तल वि [°दे] ? मरिडत, विमूषित। २ रमणीय, सुन्दर (दे ३, ४)। चित्तल वि [°चित्तल] ? चितला, कवरा,

चितकवरा (पाय)। २ पुं. जंगली पशु-विशेष, हरिण के आकारवाला द्विबुरा पशु-विशेष (जीव १, परह १, १)। चित्तलि पुं [°चित्तलि] सांप की एक जाति (परण १)। चित्तलिअ वि [°चित्तलिअ, चित्रित] चित्र-युक्त किया हुआ, 'पठम व्यग्र दिग्रहृद्धे कुमुदेहाहि चित्तलिअ' (गा २०८)। चित्तविअअ वि [°दे] परितोपित (पउ)। चित्तवीणा ली [°चित्तवीणा] वाद्य-विशेष (राय ४६)। चित्ता ली [°चित्ता] ? नक्षत्र-विशेष (सम २)। २ देवी-विशेष, एक विद्युत्कुमारी देवी (ठा ४, १)। ३ शक्रेन्द्र के एक लोकपाल की ली, देवी-विशेष (ठा ४, १—पत्र २०४)। ४ औपवि-विशेष (सुर १०, २२३; परण १७)। चित्ताचिह्लडय } पुं [°दे] जंगली पशु-विशेष  
चित्ताचेह्लरय } (आचा २, १, ५, ३; ४)। चित्तावडी ली [°चित्तावडी] वस्त्र-विशेष, झोंट (वृदीदार) आदि कपड़ा; 'उवविट्टा... चित्तावडिमसूरयम्मि विवममवई कमलया य' (स ७३८)। चित्ति पुं [°चित्ति] चित्रकार, चितेरा (कम्म १, २३)। चित्तिअ वि [°चित्तिअ] चित्र-युक्त किया हुआ (औप; कम्म; उप ३६१ टी; दे १, ७५)। चित्तिया ली [°चित्तिया] ली-जीता, धापद-विशेष की मादा (परण ११)। चित्ती देखो चेत्ती (सुज १०, ७)। चित्ती ली [°चित्ती] चैत्र मास की पूर्णिमा (इक)। चिद्विअ } वि [°दे] निर्णायित, विनाशित  
चिदाविअ } (दे ३, १३; पाय; भवि)। चित्र देखो चिण (सुपा ४; सण; भवि)। चिप्प सक [°दे] ? कूटना। २ दवाना। कर्म, 'वि (? चि)-प्पिजति जं तस्सिं केणवि गोमहवसहेण' (दे २, ९६ टी)। संक्र. चिप्पिप्ता (वृह २)। चिप्पग पुं [°दे] कूटी हुई छाल; गुजराती में 'चिपो' (कस २, ३० टि)। चिप्पड देखो चिचिड (धर्मांवि २७)। चिप्पय देखो चिप्पग (कस २, ३० टि)।

चिप्पिअ पुं [°दे] नपुंसक-विशेष, जन्म के समय में श्रृंखले से मर्दन कर जिसका श्रृंखला दबा दिया गया हो वह (पव १०६ टी)। चिप्पिडय पुं [°दे] अन्न-विशेष (दसा ६)। चिचुअ न [°चिचुअ] होठ के नीचे का अवयव, ठोड़ी (कुमा)। चिचभड न [°चिचभड] खीरा, ककड़ी, फल-विशेष, गुजराती में 'चीनडु' (दे ६, १४८)। चिचभडिया ली [°चिचभडिया] ? बल्ली-विशेष, ककड़ी का गाढ़। २ मत्स्य की एक जाति (जीव १)। चिचिभड देखो चिचभड (सुपा ६३०; पाय)। चिमिट्ट } वि [°चिपिट्ट] चिपटा, वैठा हुआ,  
चिमिट्ट } दवा हुआ (नाक) (शाया १, ८; पि २०७; २४८)। चिमिण वि [°दे] रोमश, रोमाञ्चित, पुलकित, गद्गद (दे ३, ११; पउ)। चिय देखो चेइअ = चैत्य; 'सो अग्रया कयाइ चियपरिवाडि कुणंतयो भवरे' (सम्मत् १५६)। चियका } ली [°चित्ता] मुँह को फूँकने के  
चियगा } लिए चुनी हुई लकड़ियों का ढेर (परह १, ३—पत्र ४५; सुपा ६५७; स ४१६)। चियत्त देखो चत्त (भग २, ५; १०, २; कम्म, निरु १)। चियत्त वि [°दे] ? अभिमत्, सम्मत (ठा ३, ३)। २ प्रीतिकर, राग-जनक (औप)। ३ प्रीति, हर्षि। ४ अप्रीति का अभाव (ठा ३, ३—पत्र १४७)। चियया देखो चियगा (पउम ६२, २३)। चियाग } देखो चाय = त्याग (ठा ५, १;  
चियाय } सम १६)। चिर न [°चिर] ? दीर्घ काल, बहुत काल (स्वप्न ८३; गा १४७)। २ विलम्ब, देरी (गा ३४)। ३ वि. दीर्घ काल तक रहनेवाला; 'हियइच्छियपियलंभा चिरा सया कस्स जायंति' (वजा ५२)। आरअ वि [°कारक] विलम्ब करनेवाला (गा ३४)। जीवि वि [°जीविन्] दीर्घ काल तक जीनेवाला (पि ५६७)। जीविअ वि [°जीवित] दीर्घ काल तक जीया हुआ, बुद्ध (वाय २, ३४)। डिइ, डिइय, डिइय वि [°स्थितिक]

लम्बा आयुष्यवाला, दीर्घ काल तक रहनेवाला (भगः सूत्र १, ५, १); 'एयाइँ फासाइँ फुंति वालं, निरंतरं तत्य चिरडुइँयं' (सूत्र १, ५, २)। 'राअ पुं [रात्र] बहु काल, दीर्घ काल (आचा)।

चिर अक [चिर्य्] १ विलम्ब करना। २ आलस करना। चिरग्रदि (शौ) (पि ४६०)। चिरं अ [चिरम्] दीर्घ काल तक, अनेक समय तक (स्वप्न २६; जी ४६)। तण वि [तन] पुराना, बहुत काल का (महा)। चिराच्चय वि [चिरचित] चिरकाल से उपचित—इकट्ठा किया हुआ या बढ़ा हुआ (पंच ५, १६७)।

चिरडी ली [दे] वणं-माला, अक्षरावली; 'चिराडिपि अयाणता लोआ लोएहि गोरवन्महिआ' (दे १, ६१)।

चिरडुहिहिल [दे] देखो चिरिडुहिहिल (पात्र)। चिरमाल सक [प्रति + पाल्य] परिपालन करना। चिरमालइ (प्राक् ७५)।

चिरया ली [दे] कुदे-भोपड़ी (दे ३, ११)। चिरस्स अ [चिरस्य] बहुत काल तक (उत्तर १७६; कुमा)।

चिराअ देखो चिर = चिर्य्। चिरायइ (स १२६)। चिराअसि (मै६२)। भवि. चिराअस्सं (गा २०)। वृह. चिराअमाण (नाट—मालती २७)।

चिराइय वि [चिरादिक] पुराना, प्राचीन (गाया १, १; श्रौप)।

चिराईय वि [चिरातीत] पुराना, प्राचीन (विपा १, १)।

चिराड अ [चिरात्] चिर काल से, लम्बे समय से (कुप्र ३६७)।

चिराणय (अप) वि [चिरन्तन] पुरातन, पुराना, प्राचीन (भवि)।

चिरादण वि [चिरन्तन] ऊपर देखो (वृह ३)।

चिराय अक [चिर्य्] १ विलम्ब करना। २ आलस करना। ३ सक. विलम्ब करना, रोक रखना चिरावइ (भवि)। चिरावेह (काल); 'मा खे चिरावेहि' (पउम ३, १२६)।

चिराविय वि [चिरायित] १ जिसने विलम्ब किया हो वह। २ विलम्बित, रोका गया। ३ न. विलम्ब, देरी; 'भणिएओ चंदाभाए कि अज चिरावियं सामि!' (पउम १०५, १०१)।

चिरिचिरा ली [दे] जलवारा, वृष्टि (दे ३, १३)।

चिरिक्का ली [दे] १ पानी भरने का चर्म-माजन, मशक। २ अल्प वृष्टि। ३ प्रातः काल, सुबह (दे ३, २१)।

चिरिचिरा [दे] देखो चिरिचिरा (दे ३, १३)।

चिरिडी देखो चिरडी (गा १६१ अ)।

चिरिडुहिहिल न [दे] दधि, दही (दे ३, १४)।

चिरिहिह्री ली [दे] गुआ; पुंगची, लाल रत्ती (दे ३, १२)।

चिराअ पुं [किरात] १ अनायं देश-विशेष। २ किरात देश में रहनेवाली स्लेच्छ-जाति, भिल्ल, पुलिद (हे १, १२३; २५४; परह १, १; श्रौप; कुमा)। ३ वन सारथवाह (व्यापारी) का एक दास—नौकर (गाया १, १८)।

चिराइया ली [किरातिका] किरात देश की रहनेवाली ली, किरातिन (गाया १, १)।

चिराई ली [किराती] ऊपर देखो (इक)।

पुत्त पुं [पुत्र] एक दासी-पुत्र और जैन-महापि (पडि; गाया १, १८)।

चिराद देखो चिराअ (प्राक् १२)।

चिलिचिलिआ ली [दे] धारा, वृष्टि (पड्)।

चिलिचिलिय वि [दे] भोजा या भोंगा हुआ, आद्रित, गीला (तंदु ३८)।

चिलिचिलि } वि [दे] आद्रं, गीला (परह  
चिलिचिलि } १, ३—पत्र ४५; दे ३,  
चिलिचील } १२)।

चिलिण [दे] देखो चिलीण; 'छक्कायसंजमम्मि अ चिलिणे सेहन्नहाभावो' (श्रौष १६५)।

चिलिमिणी } ली [दे] यवनिका, परदा,  
चिलिमिलिगा } आच्छादन-पट (श्रौष भा;  
चिलिमिलिया } सूत्र २, २, ४८; कस;  
चिलिमिली } श्रौष ७८; ८०)।

चिलीण न [दे] अशुचि, मैला, मल-भूत; 'सजंति चिलीणे मच्छियाओ घणचंदरं पोत्तुं' (उप १०३१ टी)।

चिल्ल पुं [दे] १ वाल, वचा, लड़का (दे ३, १०)। २ चैला, शिष्य (आवम)।

चिल्ल पुं [चिल्ल] १ वृद्ध-विशेष (राज)। २ न. पुण्य-विशेष।

'पुयं कुणंति देवा, कंचणकुमुमेसु जिणवरिदायां। इह पुण चिल्लदलेसुं, नरेण पूया विरइयन्वा'। (पउम ६६, १६)।

चिल्ल न [दे] सूप, सूप, छाज (प्राक् २८)।

चिल्लअ न [दे] देवोप्यमान, चमकता; 'मंड-गोडुणप्यमारएहि केहि केहिंवि अरुंगतिलय-पत्तलेहनामएहि चिल्लएहि' (अजि २८; श्रौप)।

चिल्लग [दे] देखो चिल्लिय (परह १, ४—पत्र ७१ टी)।

चिल्लड [दे] देखो चिल्लल (दे) (आचा २, ३, ३)।

चिल्लणा ली [चिल्लणा] एक सती ली, राजा श्रौणिक की पत्नी (पडि)।

चिल्लय न [दे] अपचक्षु, खराब आँख (परह १, १ टी—पत्र २५)।

चिल्लल पुं [चित्वल] १ अनायं देश-विशेष। २ उस देश का निवासी (इक)।

चिल्लल पुंली [दे] १ श्वापद पशु-विशेष, चीता (परह १, १—पत्र ७; गाया १, १—पत्र ६५)। ली. 'लिया (परह ११)। न. काँदोवाला जलाशय, छोटा तलाव आदि (गाया १, १—पत्र ६३)। ३ देवोप्यमान, चमकता (गाया १, १६—पत्र २११)।

चिल्ला ली [दे] चील, पक्षि-विशेष, शकुनिका (दे ३, ६; न, न; पात्र)।

चिल्लिय वि [दे] १ लीन, आसक्त (गाया १, १)। २ देवोप्यमान (गाया १, १; श्रौप; कप्प)।

चिल्लिरि पुं [दे] मशक, मच्छर, सुद्र जन्तु-विशेष (दे ३, ११)।

चिल्लूर न [दे] मुसल, एक प्रकार की मोटी लकड़ी जिससे चावल आदि अन्न कूटे जाते हैं (दे ३, ११)।

चिल्लहय पुं [दे] चक्र-मार्ग, पहिये की लकीर, गुजराती में 'बीलो' (सुपा २८०)।

चिविट्ट } वि [चिपिट] चिपटा, वैठा या  
चिविड } धँसा हुआ (नाक); 'चिविडनासा' (पि २४८; पउम २७, ३२; गउड)।

चिविडा ली [चिपिटा] गन्ध-द्रव्य-विशेष (दे ३, ७१)।

चिविड देखो चिविड (सुर १३, १८१)।

चिहुर पुं [चिहुर] केश, बाल (पात्रः सुपा २८१)।  
 ची } देखो चेइअ (हे १, १५१; साधं  
 चीअ } ५७; ६३)।  
 चीअ न [चित्त] मुद्दे को फूँकने के लिए  
 चुनी हुई लकड़ियों का ढेर; 'चीए वंधुस्त व  
 अट्टिआई रुई समुचिणइ' (गा १०४)।  
 चीइ देखो चेइअ (सुर ३, ७५)।  
 चीड वि [दे] काला कांच की मणियावाला  
 (सिरि ६८०)।  
 चीण वि [चीन] १ छोटा, लघु; 'चीणचिमि-  
 ढवंकभगरासं' (गाया १, ८—पत्र १३३)।  
 २ पुं. म्लेच्छ देश-विशेष, चीन देश (परह  
 १, १; स ४४३)। ३ चीन देश का निवासी,  
 चीनी या चीना (परह १, १)। ४ धान्य-विशेष,  
 व्रीहि का भेद (सरा); 'चीणाकरं छलिया-  
 तक्केण दिन्' (महा)। ५ पट्ट पुं [पट्ट]  
 चीन देश में होनेवाला वस्त्र-विशेष (परह १,  
 ४)। ६ पिट्ट न [पिट्ट] सिन्दूर-विशेष (राय;  
 परण १७)।  
 चीणसु } पुं [चीनांशु, क] १ कीट-विशेष,  
 चीणसुय } जिसके तन्तुओं से वस्त्र बनता है  
 (वृह १)। २ चीन देश का वस्त्र-विशेष;  
 चीणसुसमूसियवयविराइयं' (सुपा ३४; अणु;  
 जं २)।  
 चीया स्त्री. देखो चीअ = चिता; 'चीयाए  
 पक्खिउं ततो उदीविओ जलणो' (सुर ६,  
 ८८)।  
 चीर न [चीर] वस्त्र-खण्ड, कपड़े का टुकड़ा  
 (श्लोष ६३ भा; था १२; सुपा ३६१)। २ कंठू-स-  
 गपट्ट पुं [कण्डूसकपट्ट] जैन साधुओं का  
 एक उपकरण, रजोहरण का बन्धन-विशेष  
 (निच ५)।  
 चीरग पुं [चीरक] नीचे देखो (गच्छ २)।  
 चीरिय पुं [चीरि] १ रास्ता में पड़े हुए  
 चीथड़ों को पहननेवाला भिक्षुक। २ फटा-हटा  
 कपड़ा पहननेवाली एक साधु-जाति (गाया  
 १, १५—पत्र १६३)।  
 चीरिया स्त्री [चीरिका] नीचे देखो (सुर ८,  
 १८८)।  
 चीरी स्त्री [चीरी] १ वस्त्र-खण्ड, वस्त्र का  
 टुकड़ा; 'तो तेण नियवत्यंचलाउ चीरीउ

करेऊण' (सुपा ५८४)। २ क्षुद्र कीट-विशेष,  
 भौंगुर (कुमा; दे १, २६)।  
 चीवट्टी स्त्री [दे] भल्ली, भाला, शस्त्र-विशेष  
 (दे ३, १४)।  
 चीवर न [चीवर] वस्त्र, संन्यासियों या भिक्षुओं  
 के पहनने का कपड़ा (सुर ८, १८८; ठा  
 ५, २)।  
 चीहाडी स्त्री [दे] चीत्कार, चिल्लाहट, पुकार,  
 हाथी की गर्जना या चियाड़ना (सुर १०,  
 १८२)।  
 चीही स्त्री [दे] मुक्ता का वृण-विशेष (दे ३,  
 १४; ६२)।  
 चु अक [च्यु] १ मरना, जन्मान्तर में जाना।  
 २ गिरना। भवि. चइस्तामि. (कण)। संक-  
 चइऊण, चइत्ता, चइअ (उत्त ६; ठा  
 ८; भग)। क. चइयव्व (ठा ३, ३)।  
 चुअ अक [च्युत्] भरना, टपकना।  
 चुअइ (हे २, ७७)।  
 चुअ सक [च्यज्] त्याग करना, परिहार  
 करना; 'एयमट्टं मिणे चुए' (सूत्र १, १, २,  
 १२)।  
 चुअ वि [च्युत्] १ च्युत, मृत, एक जन्म  
 से दूसरे जन्म में अवतीर्ण (भग; महा; ठा  
 ३, १)। २ विनष्ट; 'चुअकलिकलुसं' (अजि  
 १८)। ३ अष्ट, पतित (गाया १, ३)।  
 चुइ स्त्री [च्युति] च्यवन, मरण (राज)।  
 चुंकारपुर न [चुंकारपुर] एक नगर (सम्मत्  
 १४५)।  
 चुंचुअ पुं [दे] शेर, अवतंस, मस्तक का  
 भूषण (दे ३, २६)।  
 चुंचुअ पुं [चुञ्चुक] १ म्लेच्छ देश-विशेष।  
 २ उस देश में रहनेवाली मनुष्य जाति  
 (इक)।  
 चुंचुण पुं [चुञ्चुण] इम्य (घनी) जाति-  
 विशेष, एक वंश्य-जाति (ठा ६—पत्र ३५८)।  
 चुंचुणिअ वि [दे] १ चलित, गत। २  
 च्युत, नष्ट (दे ३, २३)।  
 चुंचुणिआ स्त्री [दे] गोष्ठी की प्रतिध्वनि।  
 २ रमण, रति, संभोग। ३ इमली का पेड़।  
 ४ द्युत-विशेष, मुष्टि-द्यूत। ५ यूका, खटमल,  
 क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।  
 चुंचुमाँल वि [दे] १ अलस, आलसी, दीर्घ-  
 सूत्री (दे ३, १८)।

चुंचुलि पुं [दे] १ चुञ्चु चाँच। २ चुञ्चुक,  
 पत्तर, एक हाथ का संपुटाकार (दे ३, २३)।  
 चुंचुलिअ वि [दे] १ श्रवचारित, निश्चित।  
 २ न. वृष्णा, लालच, सम्पृष्टता (हे ३, २३)।  
 चुंचुलिपूर पुं [दे] चुञ्चुक उल्लू, पत्तर (दे  
 ३, १८)।  
 चुंछ वि [दे] परिशोपित, सूखाया हुआ (दे  
 ३, १५)।  
 चुंछिअ वि [दे] सूजा हुआ, परिशोपित;  
 'चुंछियगल्लं एयं, मा भतारं हला कुणमु'  
 (सुपा ३४६)।  
 चुंट सक [चि] फूल बगैरह को तोड़ कर  
 झुंटा करना। वक्र. चुंटंत (सुपा ३३२)।  
 चुंटरि वि [दे] बुननेवाला (दे ६, ११६ टी)।  
 चुंठी स्त्री [दे] बोड़ा पानीवाला अलात जला-  
 शय (गाया १, १—पत्र ३३)।  
 चुंपालय [दे] देखो चुंपालय;  
 'ताव य सेज्जामु तिओ,  
 चंदगइवेयो निसासनए।  
 चुंपालएण पेच्छइ,  
 निवडंतं रयणपज्जलियं'  
 (पउम २६, ८०)।  
 चुंव सक [चुम्] चुम्बन करना। चुंवइ  
 (हे ४, २३६)। वक्र. चुंवंत (गा १७६;  
 ५१६)। कवक. चुविजंत (सि १, ३२)।  
 संक. चुंविवि (अप) (हे ४, ४३६)। क-  
 चुंविअव्व (गा ४६५)।  
 चुंवण न [चुम्बन] चुम्बन, चुम्बा चुम्बा (गा  
 २१३; कण)।  
 चुंविअ वि [चुम्बित] १ चुम्बा लिया हुआ,  
 हत-चुम्बन। २ न. चुम्बन, चुम्बा (दे ६,  
 ६८)।  
 चुंवरि वि [चुम्बित] चुम्बन करनेवाला  
 (भवि)।  
 चुंभल पुं [दे] शेर, अवतंस, शिरो-भूषण  
 (दे ३, १६)।  
 चुक अक [अंश्] १ चुकना, भूल करना।  
 २ अष्ट होना, रहित होना, वञ्चित होना।  
 ३ सक. नष्ट करना, खण्डन करना। चुकइ  
 (हे ४, १७७; पड); 'सो सव्वविरइवाइं.  
 चुकइ देसं च सव्वं च' (विसे २६८४)।

चुक्क वि [अष्ट] ? चुका हुमा, भूला हुमा, विस्तृत; 'चुक्कसंकेमा', 'चुक्कविरागमि' (गा ३१८; १६५)। अष्ट, वञ्चित, रहित; 'दंसणमेतपसरणे चुक्का सि सुहाण बहुआण' (गा ४६५; चउ ३६; सुपा ८७)। ३ अन्वहित, वे-व्याल (से १, ६)।

चुक्क पुं [दे] मुष्टि, मुट्टी (दे ३, १४)।

चुक्कार पुं [दे] धावाज, शब्द (से १३, २५)।

चुक्कड पुं [दे] छाग, वकरा, अज (दे ३, १६)।

चुक्क [दे] देखो चौक्क (सूक्त ४६)।

चुचुय } न [चुचुक] स्तन का अग्र भाग।  
चुचुय } अन् का वृत्त, चुची (परह १, ४; राय)।

चुचुय पुं [चुचुक] स्तन का अग्र भाग, स्तनों की गोलाई, चुची (राय ६४)।

चुच्छ वि [तुच्छ] ? अल्प, थोड़ा, हल्का। २ हीन, जघन्य, नगण्य (हे १, २०४; पद)।

चुज्ज न [दे] आरचय (दे ३, १४; सट्टि ८३)।

चुडण न [दे] जोणंता, सड़ जाना (शोध ३४६)।

चुडालिअ न [दे] गुरु-वन्दन का एक दोष, रजोहरण को अन्नात की तरह खड़ा रखकर वन्दन करना (गुमा २५)।

चुडली [दे] देखो चुडुली (पव २)।

चुडिली देखो चुडुली (तंदु ४६)।

चुडुप्प न [दे] ? खाल उतारना (दे ३, ३)। २ धाव, क्षत (गउड)। ३ चमड़ी, त्वचा (पात्र)।

चुडुप्पा स्त्री [दे] त्वचा, चमड़ी, खाल (दे ३, ३)।

चुडुली स्त्री [दे] उल्का, अलात, जलती हुई लकड़ी, उल्लुक (दे ३, १५; पात्र; मुर १३, १५६; स २४२)।

चुण सक [चि] चुनन, चुगना, पक्षियों का खाना। चुणइ (हे ४, २३८); 'काओ लिवो-हलि चुणइ' (सूक्त ८६)।

चुणअ पुं [दे] ? चाण्डाल। २ बाल, बच्चा। ३ छन्द, इच्छा। ४ अर्चि, भोजन की

अप्रीति। ५ व्यतिकर, सम्बन्ध। ६ वि. अल्प, थोड़ा। ७ मुक्त, व्यक्त। ८ आघात, सूँघा हुआ (दे ३, २२)।

चुणिअ वि [दे] विचारित, धारण किया हुआ (दे ३, १५)।

चुण्ण सक [चूर्ण्य] चूरना, टुकड़ा-टुकड़ा करना। संक. चुण्णिय (राज)।

चुण्ण पुंन [चूर्ण] ? चूर्ण, चूर, टुकड़ी, बारीक खण्ड (वृह १; हे १, ८४; आचा)।

२ आटा, पिसान (आचा २, २, १)। ३ धूलो, रज, रेणु (दे ३, १७)। ४ गन्ध द्रव्य का रज, टुकड़ी (भग ३, ७)। ५ चूना (हे १, ८४; विवा १, २)। ६ बशीकरणादि के लिए किया जाता द्रव्य-मिलान (गाथा १, १४)।

कोसय न [कोशक] मध्य-विशेष (परह २, ५)।

चुण्ण न [चौर्ण] पद-विशेष, गम्भीराथक पद, महार्थक शब्द (दसति २)।

चुण्णइअ वि [दे] चूर्णाहित, चूरन से आहत; जिस प्रकार चूर्ण फेंका गया हो वह (दे ३, १७; पात्र)।

चुण्णन पुं [चूर्णक] वृक्ष-विशेष (आचा २, १०, २३)।

चुण्णा स्त्री [चूर्णा] छन्द-विशेष, वृत्त-विशेष (पिग)।

चुण्णाथा स्त्री [दे] कला, विज्ञान (दे ३, १६)।

चुण्णासी स्त्री [दे] दासी, नौकरानी (दे ३, १६)।

चुण्ण स्त्री [चूर्णि] ग्रन्थ की टीका-विशेष (निचू)।

चुण्णिअ वि [चूर्णित] ? चूर-चूर किया हुआ (पात्र)। २ धूलो से व्याप्त (दे ३, १७)।

चुण्णिआ स्त्री [चूर्णिका] भेद-विशेष, एक तरह का प्रयग्भाव, जैसे पिसान का अवयव अलग-अलग होता है (परण ११)।

चुण्णिय वि [चूर्णिक] गणित-प्रसिद्ध सर्वा-वशिष्ट अंश (मुज्ज १०, २२—पत्र १८५; १२—पत्र २१६)।

चुदस देखो चउ-दस (मुर ८, ११८)।

चुन्न देखो चुण्ण (कुमा; ठ ३, ४; प्रासू १८; भाव २; पमा ३१)।

चुन्नण न [चूर्णन] चूर-चूर करना (खा ३)।

चुन्नि देखो चुण्णि (विचार ३५२; चंड)।

चुन्निअ देखो चुण्णिअ (परह २, ४)।

चुन्निआ देखो चुण्णिआ (भास ७)।

चुप्प वि [दे] सल्लेह, स्निग्ध (दे ३, १५)।

चुप्पल पुं [दे] शेर, अवतंस (दे ३, १६)।

चुप्पलिअ न [दे] नया रंगा हुआ कपड़ा (दे ३, १७)।

चुप्पालय पुं [दे] भरोखा, गवाक्ष, वातायन, जंगला (दे ३, १७)।

चुरिम न [दे] लाय-विशेष (पव ४)।

चुलचुल अक [चुलचुलाय] उत्करिष्ठ होना, उल्लुक होना। वक्र. चुलचुलंत (गा ४८१)।

चुलणी स्त्री [चुलनी] ? दुपद राजा की स्त्री (गाथा १, १६; उप ६४८ टी)।

२ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता (महा)। °पिय पुं [°पितृ] भगवान् महावीर का एक मुख्य उपासक (उवा)।

चुलसी स्त्री [चतुरशीति] चौरासी; अस्ती और चार, ८४ (महा; जी १७); 'चुलसीए नागकुमारवासासयसहस्सेसु' (भग)।

चुलसीइ देखो चुलसी (पउम २०, १०२, जं २)।

चुलिआला स्त्री [चुलियाला] छन्द विशेष (पिग)।

चुलुअ पुंन [चुलुक] चुल्लू, पसर, एक हाथ का संपुटाकार (दे ३, १८; सुपा २१६; प्रासू ५७)।

चुलुक देखो चालुक (दे १, ८४ टी)।

चुलुचुल अक [स्पन्द] फड़कना, फरकना, थोड़ा हिलना। चुलुचुलइ (हे ४, १२७)।

चुलुचुलिअ वि [स्पन्दित] ? फरका हुआ, कुछ हिला हुआ। २ न. स्फुरण, स्पन्दन (पात्र)।

चुलुप्प पुं [दे] छाग, अज, वकरा (दे ३, १६)।

चुल्ल पुं [दे] ? शिशु, बालक। २ दास, नौकर (दे ३, २२)। ३ वि. छोटा, लघु (ठा २, ३)। °ताय पुं [°तात] पिता का छोटा भाई, चाचा (पि ३२५)। °पिउ पुं

[°पितृ] चाचा, पिता का छोटा भाई (विपा १, ३) । °माउया बी [°मात्] ? छोटी माँ, माता की छोटी सपत्नी, विमाता, सौतेली माँ (उप २६४ टी; राया १, १; विपा १, ३) । २ चाची, पिता के छोटे भाई की बी (विपा १, ३—पत्र ४०) । °सगय, °सयय पुं. [°शतक] भगवान् महावीर के दश मुख्य उपासकों में से एक (उवा) । °हिमवंत पुं [हिमयन्] छोटा हिमवान् पर्वत, पर्वत-विशेष (ठा २, ३; सम १२; इक) । °हिम-वंतकूड न [°हिमवत्कूट] ? खुद हिमवान्-पर्वत का शिखर-विशेष । २ पुं. उसका अधिपति देव-विशेष (जं ४) । °हिमवंत-गिरिकुमार पुं [°हिमवद्गिरिकुमार] देव-विशेष, जो खुद हिमवत्कूट का अधिष्ठायाक है (जं ४) ।

चुहग न [दे] संदूक (कुप्र २२७; २२८) ।  
चुहग [दे] देखो चोहक (आक) ।

चुह्दि } बी [ चुह्दि, °ह्दी ] चुह्दा, जिसमें  
चुह्दी } आग रखकर रसोई की जाती है वह  
(दे १, ८७; सुर २, १०३) ।

चुह्दी बी [दे] शिला, पापाण-खण्ड (दे ३, १५) ।

चुल्लुच्छल अक [दे] छलकना, उछलना;  
'चुल्लुच्छलेइ जं होइ ऊणयं, रितायं कणकणेइ ।  
भरियाई ए खुन्ती सुपुरिसविन्नाएमंडाई' ।  
(सूयनि २६ टी) ।

चुह्दोडय पुं [दे] बड़ा भाई (दे ३, १७) ।  
चूअ पुं [दे] स्तन-शिला, यन का अग्र भाग,  
चूची (दे ३, १८) ।

चूअ पुं [चून] ? वृत्त-विशेष, आत्र, आम  
का गाछ (गउड; भग; सुर ३, ४८) । २  
देव-विशेष (जीव ३) । °वडिसग न [°वतं-  
सक] सौवर्ग-विमान-विशेष (राय) । °वडिसा  
बी [°वतंसा] शकेन्द्र की एक अग्र-महिषी,  
इन्द्राणी-विशेष (इक; जीव ३) ।

चूआ बी [चूता] शकेन्द्र की एक अग्र-  
महिषी, इन्द्राणी-विशेष (इक; ठा ४, २) ।

चूअअ पुंन [चूअक] स्तन का अग्र-भाग  
(प्राक ११) ।

चूड पुं [दे] चूडा, बाहु-भूषण, बलयावली  
(दे ३, १८; ७, ५२; ५६; पात्र) ।

चूडा देखो चूआ (सुर २, २४२; गउड;  
राया १, १; सुपा १०४) ।

चूडुहअ (अप) देखो चूड (हे ४, ३६५) ।

चूर सक [चूरय्, चूर्णय्] खण्ड करना,  
तोड़ना, टुकड़ा-टुकड़ा करना । चूरमि (धम्म  
६ टी) । नवि. चूरइत्सां (पि ५२८) । वक्र.  
चूरंत (सुपा २६१; ५६०) ।

चूर (अप) पुंन [चूर्ण] चूर, चुरचुर; 'जिह  
गिरासिगह पडिअ निल, अन्नुवि चूर करेइ'  
(हे ४, ३३७) ।

चूरण देखो चुन्नण (कुप्र २७३) ।

चूरिअ वि [चूर्ण, चूर्णित] चूर-चूर किया  
हुआ, टुकड़ा-टुकड़ा किया हुआ (भवि) ।

चूरिम पुंन [दे] मिठाई विशेष, चूना लड्डू  
(पत्र ४ टी) ।

चूळं देखो चूला । °मणि न [°मणि]  
विद्याधरों का एक नगर (इक) ।

चूळअ [दे] देखो चूड (नाट) ।

चूला बी [चूडा] ? चोटो, सिर के बीच की  
केश-शिखा (पात्र) । २ शिखर, टोंच; 'अवि  
चलइ मेव्वला' (उप ७२८ टी) । ३ नयूर-  
शिला । ४ कुक्कुट-शिला । ५ शेर की  
केसरा । ६ कुंत वगैरह का अग्र भाग । ७  
विभूषण, अलंकार;

'तिविहा य दव्वचूला, सच्चितां मोलगा य अच्चिता ।  
कुक्कुड सीह मोरसिहा, चूलामणि अगकुंतादी ।  
चूला विभूषणांति य, सिहरंति य हांति एगट्टा'  
(निचू १) ।

८ अधिक मास । ९ अधिक वर्ष । १० ग्रन्थ  
का परिशिष्ट (दसचू १) । °कम्म न [°कर्मन्]  
संस्कार-विशेष, मुण्डन (आवम) । °मणि  
पुंनो [°मणि] ? सिर का सर्वोत्तम आभूषण  
विशेष, मुकुट-रत्न, शिरो-मणि (श्रीप;  
राय) । २ सर्वोत्तम, सर्व-श्रेष्ठ; 'तिलापचूला-  
मणि नमो ते' (धण १) ।

चूलिय पुं [चूलिक] ? अनायं देश-विशेष ।  
२ उस देश का निवासी (परह १, १) । ३  
बीन. संख्या विशेष, चूलिकांग की चौरासी  
लाल से गुणने पर जो संख्या लघ्व हो वह  
(इक; ठा २, ४) । बी. °या (राज) ।

चूलियंग न [चूलिकाङ्ग] संख्या-विशेष,

प्रयुक्त को चौरासी लाल से गुणने पर जो  
संख्या लघ्व हो वह (ठा २, ४; जीव ३) ।

चूलिया देखो चूला (सम ६६; सुर ३, १२;  
रांदि; निचू १; ठा ४, ४) ।

चूय (अप) देखो चूअ (नवि) ।

चूह सक [क्षिप्] फेंकना, डालना, प्रेरणा ।  
चूहइ (पट) ।

चे अ [चेन्] यदि, जो, अगर (उत् १६);  
'एयं च कयां तित्थं, न चेद्वेत्तोत्ति को  
गाहो ?' (विसे २५८६) ।

चे देखो चय = त्वन् । चेइ, (आचा) । संक.  
चेसा (कण; श्रोप) ।

चे ) देखो चि । चेइ, चेप्रइ, चेए, चेअए  
चेअ ( पट ) ।

चेअ अक [चिन्] ? चेतना, तावधान  
होना, ब्याल रखना । २ मुष आना, स्मरण  
करना, याद आना । चेअइ (स ५३८) । ३  
सक, जानना । ४ अनुभव करना । चेअए  
(आवम) ।

चेअ सक [चेतय्] ? ऊपर देखो । २  
देना, अर्पण करना, वितरण करना । ३  
करना, बनाना; 'जो अंतरायं चेअइ' (सम  
५१) । चेराइ, चेएत्ति, चेएनि (आचा) । वक्र.  
चेत[ए]माण (ठा ५, २—पत्र ३१४;  
सम ३६) ।

चेअ अ [एय] अवधारण सूचक अव्यय,  
निश्चय वतानवाना अव्यय (हे २, १८४) ।

चेअ न [चेतस्] ? चेत, चेतना, ज्ञान,  
चेतन्य (विसे १६६१; भग १६) । २ नन,  
चित्त, अन्तःकरण (दस ५, १; ठा ६, २) ।

चेइ पुं [चेदि] देश-विशेष (इक सत्त ६७  
टी) । °वइ पुं [°पति] चेदि देश का राजा  
(पिग) ।

चेइ ) पुंन [चेत्थ] ? चित्ता पर बनाया  
चेइअ ) हुआ स्मारक, स्तूप, कवर या कवर वगे-  
रह स्मृति चिह्न; 'मडयदाहेसु वा मडययुनियासु  
वा मडयचेइएसु वा' (आचा २, २, ३) ।

२ व्यन्तर का स्थान. व्यन्तरायतन (भग;  
उवा; राय; निर १, १; विपा १, १; २) ।

३ जिन-मन्दिर, जिन-गृह, अर्हन्मन्दिर (ठा  
४, २—पत्र ४३०; पंचभा; पंचा १२;  
महा; द्र-४; २७); 'पडिन्, कासी य चेइए  
रम्मे' (पत्र ७६) । ४ इष्ट देव की स्मृति,

अभीष्ट देवता की प्रतिमा: 'कल्लाए मंगलं चेइयं पज्जुवासापो' (श्रीप; भग) । ५ अर्ह-  
 द्यप्रतिमा, जिन-देव की मूर्ति (ठा ३, १; उवा: परह २, ३; आब २; पडि); 'विइएणं उप्पाएणं नंदीसरखरे दीवे समोसरणं करेइ, तहि चेइयाई वंदइ' (भग २०, ६); 'जिण-  
 विदे मंगलचेइयंति सययन्नुणो विति' (पव ७६) । ६ उद्यान, बगोचा: 'मिहिलाए चेइए वच्छे सोअच्छाए मणोरमे' (उत्त ६, ६) । ७ सभा-वृक्ष, सभा-गृह के पास का वृक्ष । न चवूतरा-  
 वाला वृक्ष । ८ देवों का चिह्न-भूत वृक्ष । ९० वह वृक्ष जहाँ जिनदेव को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है (ठा न: सम १३; १५६) । ११ वृक्ष, पेड़: 'वाएण हीरमाणम्मि चेइयम्मि मणोरमे' (उत्त ६, १०) । १२ यज्ञ स्थान । १३ मनुष्यों का विश्राम-स्थान (पड; हे २, १०७) । 'खंभ पुं [स्तम्भ] स्तूप, धूम, (सम ६३; राय; सुज्ज १८) । 'घर न [गृह] जिन-मन्दिर: अर्हन्मन्दिर (पउम २, १२; ६४, २६) । 'जत्ता ली [यात्रा] जिन-प्रतिमा-सम्बन्धी महात्सव-विशेष (धम ३) । 'धूम पुं [स्तूप] जिन-मन्दिर के समीप का स्तूप (ठा ४, २; ज १) । 'द्रव्य न [द्रव्य] देव-द्रव्य, जिन-मन्दिर-संबंधी स्वावर या जंगम मिल्कत (वव ६; पञ्चभा: उप ४०७; द्र ४) । 'परिवाडी ली [परि-  
 पाटी] क्रम से जिन मन्दिरों की यात्रा (धम २) । 'मह पुं [मह] चैत्य-सम्बन्धी उत्सव (आचा २, १, २) । 'स्वस्व पुं [वृक्ष] १ चवूतरावाला वृक्ष, जिसके नीचे चौतरा बांधा हो ऐसा वृक्ष । २ जिन-देव को जिसके नीचे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है वह वृक्ष । ३ देवताओं का चिह्न भूत वृक्ष । ४ देव-सभा के पास का वृक्ष (सम १३, १५६; ठा न) । 'वन्दण न [वन्दन] जिन-प्रतिमा की मन, वचन और काया से स्तुति (पव १; संघ १; ३) । 'वंदणा ली [वन्दना] वही पूर्वोक्त अर्थ (संघ १) । 'वास पुं [वास] जिन-मन्दिर में यतियों का निवास (दंस) । 'हर देखो 'घर (जीव १; पउम ६५, ६२; सुपा १३; द्र ६५; उवर १६०) । चेइअ वि [चेतित] कृत, विहित: 'तत्थ २

अगारीहि अगाराइं चेइयाइं भवंति' (आचा २, १, २, २); 'चेइअं कइमेगट्टं' (वृह २; कस) ।  
 चेंध देखो चिंध (प्राप्र) ।  
 चेच्चा देखो चे = त्यज् ।  
 चेट्ट अक [चेट्ट] प्रयत्न करना, आचरण करना । वक्र. चेट्टमाण (काल) ।  
 चेट्ट देखो चिट्ट = स्या (दे १, १७४) ।  
 चेट्टण न [स्थान] स्थिति, अवस्थान (वव ४) ।  
 चेट्टण देखो चिट्टण = चेट्ट (उपयं ११) ।  
 चेट्टा ली [चेट्टा] प्रयत्न, आचरण (ठा ३, १; सुर २, १०६) ।  
 चेट्टिय देखो चिट्टिय = चेट्टि (श्रीप; महा) ।  
 चेड पुं [दे] बाल, कुमार, शिशु (दे ३, १०; णायमा १, २; वृह १) ।  
 चेड } पुं [चेट, क] १ दास, नौकर  
 चेडग } (श्रीप; कप्प) । २ नृप-विशेष,  
 चेडय } वंशालिका नगरी का एक स्वनाम  
 प्रसिद्ध राजा (आचू १; भग ७, ६; महा) ।  
 ३ मैला देवता, देव की एक जघन्य जाति (सुपा २१७) ।  
 चेडिआ ली [चेट्टिका] दासी, नौकरानी (भग ६, ३३; कप्पु) ।  
 चेडी ली [चेटी] ऊपर देखो (आवम) ।  
 चेडी ली [दे] कुमारी, बाला, लड़की (पाप्र) ।  
 चेत्त न [चेत्त] चैत्य-विशेष (पड) ।  
 चेत्त पुं [चैत्र] १ मास-विशेष, चैत मास (सम २६; हे १, १५२) । २ जैन मुनियों का एक गच्छ (वृह ६) ।  
 चेत्ती ली [चैत्री] १ चैत मास की पूर्णिमा । २ चैत मास की अमावस (सुज १०, ६) ।  
 चेदि देखो चेइ (सण) ।  
 चेदीस पुं [चेदीश] चेदि देश का राजा (सण) ।  
 चेयग वि [चेतक] दाता, देनेवाला (उप ६५७) ।  
 चेयण पुं [चेतन] १ आत्मा, जीव, प्राणी (ठा ४, ४) । २ वि. चेतनावाला, ज्ञानवाला: 'भुवि चेयणं च किमख्वं' (विसे १८४५) ।  
 चेयणा ली [चेतना] ज्ञान, चैत, चैतन्य, सुध, ब्याल (आब ६; सुर ४, २४५) ।  
 चेयण्ण } न [चैतन्य] ऊपर देखो (विसे  
 चेयन्न } ४७५; सुपा २०; सुर १४, ८) ।  
 चेयस देखो चेअ = चेतस् ;

'ईसादासेण आविद्धे, कलुसाविलवेयसे ।  
 जे अंतरायं चेएइ, महामोहं पकुव्वइ' (सम ५१) ।  
 चेया देखो चेयणा: 'पत्तेयमभावाओ, न रेणु-  
 तेल्लं व समुदए चेया' (विसे १६५२) ।  
 चेल } न [चेल] वक्र, कपड़ा (आचा  
 चेलय } श्रीप) । 'कण्ण न [कण] व्यजन-विशेष, एक तरह का पंखा (स ५४६) ।  
 'गोल न [गोल] वक्र का गेंद. कन्दुक (सूअ १, ४; २) । 'हर न [गृह] तम्बू, पट-भण्डप, रावटी (स ५३७) ।  
 चेलय न [दे] तुला-पात्र: 'दिहीतुलाए भुवणं, तुलंति जे चित्तचेलए निहियं' (वजा ५६) ।  
 चेलिय देखो चेल: 'रयणकंचएचेलियवहुधन्त-  
 भरभरिया' (पउम ६६, २५; आचा) ।  
 चेलुं प न [दे] मुसल, मूपल (दे ३, ११) ।  
 चेह } [दे] देखो चिह्न (दे) (पउम ६७,  
 चेहअ } १३; १६; स ४६६; दसनि १; उप २६८) ।  
 चेहग } [दे] देखो चिह्न (पएह १,  
 चेहय } ४—पत्र ६८; ती ३३) ।  
 चेव अ [एव, चैव] १ अवधारण-सूचक अव्यय, निश्चयदर्शक शब्द; 'जो कुणइ परस्स दुहं पावइ तं चेव सो अणंत-गुणं' (प्रासू २६; महा); 'अवहारणे चेवसदो यं' (विसे ३५६५) । २ पाद-पूरक अव्यय (पउम ८, ८८) ।  
 चेव अ [इव] सादृश्य-द्योतक अव्यय, 'पेच्छइ गणहरवसहं सरयग्गि चेव तेएणं' (पउम ३, ४; उत्त १६, ३) ।  
 चो देखो चउ (हे १, १७१; कुमा; सम ६०; श्रीप; भग; णायमा १, १; १४; विपा १, १; सुर १४, ६७) । आला ली [चत्वारि-  
 शान्] चालीस और चार, ४४ (वसे २३०४) ।  
 'वाट्टु ली [पट्टि] चौसठ, ६४ (कप्प) ।  
 'वत्तारि ली [सप्तति] सत्तर और चार, ७४ (सम ८४) ।  
 चोअ सक [चोदय्] १ प्रेरणा करना । २ कहना । चोएइ (उव; स १५) । कवक. चोइज्जंत, चोइज्जमाण (सुर २, १०; णायमा १, १६) । संक. चोइऊण (महा) ।  
 चोअअ वि [चोदक] प्रेरक, प्रश्न-कर्ता, पूर्व-पक्षी (अणु) ।

चोणअ न [चोदन] प्रेरण, प्रेरणा (भत ३६; उत २८)।  
 चोइअ वि [चोदित] प्रेरित (स १५; सुपा १५०; औप; महा)।  
 चोए सक [चोदय्] १ प्रश्न करना। २ सीखना, शिक्षण देना। चोएइ, चोएह (वव?)।  
 चोक्क [दे] देखो चुक्क = (दे) (महा)।  
 चोक्ख वि [दे] चोखा, शुद्ध, शुचि, पवित्र, (गाया १, १; उप १४२ टी; वृह १; भग ६, ३३; राय; औप)।  
 चोक्खलि वि [दे] चोखाई करनेवाला, शुद्धता वाला (पिड ६०३)।  
 चोक्खा छी [चोक्षा] परिव्राजिका-विशेष, इस नाम की एक संग्यासिनी (गाया १, ८)।  
 चोज्ज न [दे] आश्चर्य, विस्मय (दे ३, १४; सुर ३, ४; सुपा १०३, सट्टि १५६; महा)।  
 चोज्ज न [चौर्य] चोरो, चोर-कर्म, 'तहेव हिंसं अलियं, चोज्जं अवमसेवणं' (उत्त ३५, ३; गाया १, १८)।  
 चोज्ज न [चोच] १ प्रश्न, पृच्छा। २ आश्चर्य, अद्भुत। ३ वि. प्रेरणा-योग्य (गा ४०६)।  
 चोट्टी छी [दे] चोटी, शिखा (दे ३, १)।  
 चोट्टु न [दे] वृत्त, फल और पत्ती का बन्धन, (विक्र २८)।  
 चोट्टु पुं [दे] विल्व, वृक्ष-विशेष, बेल का पेड़ (दे ३, १६)।  
 चोणग न [दे] १ कलह, झगड़ा (निचू २०)। २ काष्ठानयन आदि नवन्य कर्म (सुअ २, २)।  
 चोत्त } पुंन [दे] प्रतोद, प्राजन-दण्ड, चोत्तअ } चावूक (दे ३, १६; पात्र)।  
 चोद [दे] देखो चोय (परह २, ५—पत्र १५०)।  
 चोदग देखो चोअअ (शेष ४ भा)।  
 चोदणा छी [चोदना] प्रेरणा, किसी प्रभाव-शाली व्यक्ति की ओर से कुछ कहने या करने के लिए होनेवाला संकेत (धर्मसं १२४०)।  
 चोप्पड सक [अक्ष] स्निग्ध करना, धी तेल वगैरह लगाना। चोप्पडइ (हे ४, १६१)।  
 वक्क. चोप्पडमाण (कुमा)।

चोप्पड न [अक्षण] धी, तेल वगैरह स्निग्ध वस्तु; 'नेहव्वयस्स जोगं किंचिवि कणचोप्प-डाईयं' (सुपा ४३०)।  
 चोप्पडिय वि [दे] चुपड़ा हुआ (पत्र ४)।  
 चोप्पाल पुं [चतुप्पाल] सूर्याभ देव की श्रायुष-शाला (राय ६३)।  
 चोप्पाल न [दे] मत्तवारण, वरण (जं २)।  
 चोफुच्च वि [दे] स्निग्ध, स्नेहवाला, प्रेम-युक्त, प्रेमी (दे ३, १५)।  
 चोय } न [दे] त्वचा, छान्न (परह २, चोयग } ५—पत्र १५० टी)। २ आम वगैरह का हंछा (निचू १५; आचा २, १, १०)। ३ गन्ध-द्रव्य-विशेष (अणु; जीव १; राय)।  
 चोयग देखो चोअअ (एदि)।  
 चोयणा छी [चोदना] प्रेरणा (स १५; उप ६४८ टी)।  
 चोयय पुं [दे] फल-विशेष (अणु १५४)।  
 चोयालीस बीन [चतुअत्वारिंशत्] चौवा-लीस, ४४ (वेदय ३६२)।  
 चोर पुं [चोर] तस्कर, दूसरे का धन चुराने-वाला (हे ३, १३४; परह १, ३)। °कीड पुं [°कीट] विष्ठा में उत्पन्न होता कीट (जी १७)।  
 चोरंकार पुं [चौर्यंकार] चोर, तस्कर; 'चोरंकारकरं जं थूलमदत्तं तयं वज्जे' (सुपा ३३४)।  
 चोरग वि [चोरक] १ चुरानेवाला। २ पुंन. वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३४)।  
 चोरण न [चोरण] १ चोरो, चुराना (सुर ८, १२२)। २ वि. चोर, चोरी करनेवाला (भवि)।  
 चोरली छी [दे] श्रावण मास की कृष्ण चतुदशी (दे ३, १६)।  
 चोरग पुं [चोराक] संनिवेश-विशेष, इस नाम का एक छोटा गाँव (आवम)।  
 चोराव सक [चोरय्] चोरी करना। चोरावेइ (प्राक् ६०)।  
 चोरासी } देखो चंउरासी (पि ४३६; चोरासीइ } ४४६)।  
 चोरिअ न [चौर्य] चोरी, अपहरण (हे २, १०७; ठा १, १; प्राक् ६५; सुपा ३७६)।

चोरिअ वि [चौरिक] १ चोरी करनेवाला (पत्र ४१)। २ पुं. चर, जानूस (परह १, १)।  
 चोरिअ वि [चोरित] चुराया हुआ (वित्त ८५७)।  
 चोरिआ छी [चौर्य, चोरिका] चोरो, अपहरण (गा २०६; पड; हे १, ३५; सुर ६, १७८)।  
 चोरिअ न [चौरिक्य] ऊपर देखो (परह १, ३)।  
 चोरी छी [चोरी] चोरी, अपहरण (था २७)।  
 चोल वि [दे] १ वामन, कुञ्ज (दे ३, १८)। २ पुं. पुल्प चिह्न, लिङ्ग (पत्र ६१)। ३ न. गन्ध-द्रव्य-विशेष, मंजिष्ठा (उर ६, ४)। °पट्ट पुं [°पट्ट] जैन मुनि का कटि-बन्ध (श्राव ३४)। °व पुं [°ज] मजीठ का रंग (उर ६, ४)।  
 चोल पुं [चोल] देश-विशेष, द्रविड़ और कलिङ्ग के बीच का देश (पिग; सण)।  
 चोलअ न [दे] कवच, बर्म (नाट)।  
 चोलअ } न [चौल, °क] संस्कार-विशेष, चोलग } मुरडन; 'विहिणा चूलाकम्मं बालाए चोलायं नाम' (आवम; परह १, २)।  
 चोलुक्क देखो चालुक्क (ती ५)।  
 चोलोयगग न [चूलापनयन] १ चूलोप-चोलोवणय } नयन, संस्कार-विशेष, सुंउन चोलोवणयण } (गाया १, १—पत्र ३८)। २ शिखा-धारण, चूडा-धारण (भग ११, ११—पत्र ५४४; औप)।  
 चोल्लक [दे] देखो चोल्ला (परह २, ४)।  
 चोल्लक } पुंन [दे] १ भोजन (उप पृ १२; चोल्ला } आवम; उत्त ३)। २ वि. बुद्धक, छोटा, लघु (उप पृ ३१)।  
 चोल्लय पुंन [दे] पैला, बोरा, गोन; 'परं मम समखं तालेह चोल्लए'; 'राइणा उक्केल्ला-वियाइं चोल्लयाई' (महा)।  
 चोवत्तरि छी [चतुःसप्तति] सत्तर और चार, ७४ (पत्र ५, १८)।  
 चोवालय पुंन [चतुर्दार] चोवारा, ऊपर का शयन-गृह; 'इमो य एगा देवी हत्थिमिठे आसत्ता। एवरं हत्थी चो—(? चो)वाल-याओ हत्थेण अवत्तरिइ' (वस २, १० टी)।  
 चोव्वड देखो चोप्पड = अक्ष। चोव्वडइ (पड)।

च अ [एय] अवारण-सूचक अव्यय (हे २ १८४; कुमा; पड्) ।

चिअ देखो चिअ = एव (हे २, १८४; कुमा) ।

चेअ } देखो चेव = एव (पि ६२; जी ३२) ।  
चेव }

॥ इअ सिरिपाइअसद्महणवन्मि चयाराइसद्संकलणो  
चउद्समो तरंगो समतो ।

छ

छ पुं [छ] १ तालु-स्वानोय व्यञ्जन वर्ण-  
विशेष (प्राप; प्रामा) । २ आच्छादन, ढकना;  
'छ त्ति य दोसाण छायेणे होइ' (आवम) ।

छ वि. व. [पप्] संख्या-विशेष, छः; 'छ  
छंदिआओ जिणसासणम्मि' (श्रा ६; जी ३२;  
भग १, ८) । 'उत्तरसय वि [उत्तर-  
शततम] एक सौ और छठवाँ (पउम १०६,  
४६) । 'कम्म न [कर्मन्] छः प्रकार के  
कर्म, जो ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं, यथा—  
यजन, याजन, अद्ययन, अद्यापन, दान और  
प्रतिग्रह (निबू १३) । 'काय न [काय]  
छः प्रकार के जीव, पृथिवी, अग्नि, पानी,  
वायु, वनस्पति और वस जीव (श्रा ७;  
पंचा १५) । 'गुण, गुण वि [गुण]  
छयुना (ठा ६; पि २७०) । 'चरण पुं  
[चरण] भ्रमर, भौंरा (कुमा) । 'जीव-  
निकाय पुं [जीवनिकाय] देखो काय  
(आचा) । 'णउइ, 'णवइ [णवति]  
संख्या-विशेष, छानवे, ६६ (सम ६८; अजि  
१०) । 'त्तीस छीन [त्रिंशत्] संख्या-  
विशेष, छत्तीस, ३६ (कप्प) । 'त्तीसइम  
वि [त्रिंशत्तम] छत्तीसवाँ (पउम ३६,  
४३; पणए ३६) । 'इस वि. व. [पोडशन्]  
पोडश, सोलह । 'इसहा अ [पोडशथा]  
सोलह प्रकार का (वव ४) । 'दिसि न  
[दिश] छः दिशाएँ—पूर्व, पश्चिम,  
उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधोदिशा (भग) ।  
'इअ [था] छः प्रकार का (कम्म १,  
३८) । 'नवइ, 'नुवइ, 'नउइ देखो  
'णउइ (कम्म ३, ४; १२; सम ७०) ।

'नउय वि [णवत] छानवेवाँ, ६६ वाँ  
(पउम ६६, ५०) । 'पणण, पण्ण छीन  
[पञ्चाशत्] छप्पन, ५६ (राज; सम  
७३) । 'पण्ण वि [पञ्चाश] छप्पनवाँ  
(पउम ५६, ४८) । 'वभाय पुं [भाग]  
छठवाँ हिस्ता (पि २७०) । 'वभासा छी  
[भापा] प्राकृत, संस्कृत, मागधी, शौरसेनी,  
पेशाचिका और अपभ्रंश ये छः भापाएँ  
(रंभा) । 'मासिय, 'म्मासिय वि [पाण-  
मासिक] छः मास में होनेवाला, छः मास  
सम्बन्धी (सम २१; श्रौप) । 'वरिस वि  
[वार्पिक] छः वर्ष की उम्रवाला (सार्ध  
२६) । 'वीस देखो 'व्वीस (पिग) ।  
'व्विह वि [विघ] छः प्रकार का (कस;  
नव ३) । 'व्वीस छीन [विंशति]  
छव्वीस, बीस और छः (सम ४५) । 'व्वी-  
सइम वि [विंशतितम] १ छव्वीसवाँ  
२६ वाँ (पउम २६, १०३) । २ लगातार  
बारह दिनों का उपवास (एणाया १, १) ।  
'सट्टि छी [पट्टि] संख्या-विशेष, साठ  
और छः (कम्म २, १८) । 'स्सयरि छी  
[सप्तति] छिहत्तर (कम्म २, १७) ।  
'हा देखो 'इहा (कम्म १ ५; ८) ।

छइ देखो छवि = छवि (वा १२) ।

छइअ वि [स्थगित] आवृत्त, आच्छादित,  
तिरोहित (हे २, १७; पड्) ।

छइल } वि [दे] विदग्ध, चतुर, होशियार  
छइल } (पिग; दे ३, २५; गा ७२०; वजा  
पात्र; कुमा) ।

छउअ वि [दे] तनु, कृश, पतला (दे ३, २५) ।

छउम पुं [छुमन्] १ कपट, शठता, माया  
(सम १; पड्) । २ छल, वहाना (हे २,  
११२; पड्) । ३ आवरण, आच्छादन (सम  
१; ठा २, १) ।

छउम न [छुमन्] ज्ञानावरणीय आदि  
चार घाती कर्म (चेइय ३४६) ।

छउमत्य वि [छुमस्थ] १ असर्वज्ञ, संपूर्ण  
ज्ञान से वञ्चित । २ राग-सहित, सराग (ठा  
४, १; ६; ७) ।

छउलूअ देखो छलूअ (राज; वित्ते २५०८) ।

छंकुई छी [दे] कपिकच्छ, वृक्ष-विशेष,  
केवाँच, कवाछ (दे ३, २४) ।

छंट पुं [दे] छोंटा, जल का छोंटा, जल-  
च्छटा । २ वि. शीघ्र, जल्दी करनेवाला (दे  
३, ३३) ।

छंट सक [सिच्] सींचना । छंटमु (सुपा  
२६८) ।

छंटण न [सेचन] सिंचन, सिंचना (सुपा  
१३६; कुमा) ।

छंटा छी [दे] देखो छंट (पात्र) ।

छंटिअ वि [सिक्त] सींचा हुआ (सुपा १३८) ।

छंड देखो छड्डु = मुच् । छंडइ (आरा ३२;  
भवि) ।

छंडिअ वि [दे] छल्ल, गुप्त (पड्) ।

छंडिअ वि [मुक्त] परित्यक्त, छोड़ा हुआ  
(आरा; भवि) ।

छंड सक [छन्द] १ चाहना, वाञ्छना । २  
अनुज्ञा देना, संमति देना । ३ निमन्त्रण  
देना । कवक;



‘अंतेउरपुरवलवाहणेहि  
वरसिरिघरेहि मुणिवसभा ।  
कामेहि बहुविहेहि य  
छंदिज्जंतावि नेच्छंति’ (उव) ।  
संक्र. छंदिअ (वस १०) ।  
छंद पुंन [छन्द] ? इच्छा, मरजी, अभिलाषा  
(आचा; गा २०२; स २३६; उव; प्रासू ११) ।  
२ अभिप्राय, आशय (आचा; भग) । ३ वशता,  
अधीनता (उत्त ४; हे १, ३३) । °चारि वि  
[°चारिन्] स्वच्छन्दी, स्वैरी (उप ७६८  
दी) । °इत्त वि [°वत्] स्वैरी (भवि) ।  
°णुवत्तण न [°णुवत्तन] मरजी के  
अनुसार वरतना (प्रासू १४) । °णुवत्तयं  
वि [°णुवत्तक] मरजी का अनुसरण  
करनेवाला (णाय १, ३) ।  
छंद पुंन [छन्दस्] ? स्वच्छन्दता, स्वैरिता  
(उत्त ४) । २ अभिलाष, इच्छा । ३ आशय,  
अभिप्राय (सूत्र १, २, २; आचा; हे १,  
३३) । ४ छन्दः-शास्त्र (सुपा २८७; श्रौष) ।  
५ वृत्त, छन्द (वज्जा ४) । °णुय वि [°ञ]  
छन्द का जानकार (गउड) ।  
छंदण पुंन [छादन] ढकना, ढकन (राय  
६६) ।  
छंदण न [छन्दन] निमन्त्रण (पिड ३१०) ।  
छंदण न [वन्दन] वन्दन, प्रणाम, नमस्कार  
(सुमा ४) ।  
छंदणा स्त्री [छन्दना] ? निमन्त्रण (पंचा  
१२) । २ प्रार्थना (वृह १) ।  
छंदा स्त्री [छन्दा] वीक्षा का एक भेद, अपने  
या दूसरे के अभिप्राय-विशेष से लिया हुआ  
संन्यास (ठा २, २; पंचभा) ।  
छंदिअ वि [छन्दित] अनुज्ञात, अनुमत  
(श्रौष ३८०) । २ निमन्त्रित (निचू २) ।  
छंदो° देखो छंद = छन्दस् (आचा; अभि १२६) ।  
छक वि [पट्क] छक्का, छः का समूह;  
‘अंतररिउछक्काअकंता (सुपा ५१६; सम  
३५) ।  
छग देखो छ = पप् (कम्म ४) ।  
छग न [दे] पुरीष, विष्ठा (परह १, ३—  
पत्र ५४; श्रौष ७२) ।  
छग देखो छक (पव २७१) ।

छगण न [स्थगण] पिधान, ढकना (वव ४) ।  
छगण न [दे] गोमय, गोवर (उप ५६७ टी,  
पंचा १३; निचू १२) ।  
छगणिया स्त्री [दे] गोईठा, कंडा (अनु ५) ।  
छगल पुंस्त्री [छगल] छाग, अन्न, बकरा  
(परह १, १; श्रौष) । स्त्री. °लो (दे २, ८४) ।  
°पुर न [°पुर] नगर-विशेष (ठा १०) ।  
छग देखो छक (दे ११) ।  
छगुरु पुं [पङ्गुरु] ? एक सौ और असी  
दिनों का उपवास । २ तीन दिनों का उपवास  
(ठा २, १) ।  
छच्छंदर पुंन [दे] छच्छंदर, मूसे या चूहे  
की एक जाति (सं १६) ।  
छज्ज अक [राज्] शोभना, चमकना ।  
छज्जइ (हे ४, १००) ।  
छज्जिअ वि [राजित] शोभित, अलंकृत  
(कुमा) ।  
छज्जिआ स्त्री [दे] पुष्प-नात्र, चंगेरी (स  
३३४) ।  
छट्टा [दे] देखो छंटा (पड) ।  
छट्टु वि [पट्ट] ? छट्टा (सम १०४; हे १,  
२६५) । २ न. लगातार दो दिनों का उपवास  
(सुर ४, ५५) । °क्खमण न [°क्षमण,  
°क्षपण] लगातार दो दिनों का उपवास  
(अंत ६; उप पृ ३४३) । °क्खमय पुं  
[°क्षमक, °क्षपक] दो-दो दिनों का बराबर  
उपवास करनेवाला तपस्वी (उप ६२२) ।  
°भत्त न [°भक्त] लगातार दो दिनों का  
उपवास (वर्म ३) । °भत्तिय वि [°भक्तिक]  
लगातार दो दिनों का उपवास करनेवाला  
(परह १, १) ।  
छट्टी स्त्री [पट्टी] ? तिथि-विशेष (सम २६) ।  
२ विभक्ति-विशेष, संवन्ध-विभक्ति (सुदि,  
हे १, २६५) । ३ जन्म के बाद किया जाता  
उत्सव-विशेष (सुपा ५७८) ।  
छड सक [आ + रुह्] आरुह होना,  
चढ़ना । छडइ (पड) ।  
छडक्खर पुं [दे] स्कन्द, कार्तिकेय (दे  
२, २६) ।  
छडछडा स्त्री [छट्छटा] सूप (सूप) वगैरह  
से अन्न को भाड़ते समय होता एक प्रकार का  
अव्यक्त आवाज (णाय १, ७—पत्र ११६) ।

छडा स्त्री [दे] विद्युत, विजली (दे ३, २४) ।  
छडा स्त्री [छटा] ? समूह, परस्पर (सुर ४,  
२४३; वा १२) । २ छंटा, पानी की बूंद  
(पाय) ।  
छडाल वि [छटावन] छडावाला (पत्रम  
३५, १८) ।  
छडिय वि [छटित] सूप आदि से छंटा या  
फटका हुआ (तंडु २६; राय ६७) ।  
छट्टु सक [छट्टय, मुत्त] ? वमन करना ।  
२ छोड़ना, त्याग करना । ३ डालना, गिराना ।  
छट्टुइ (हे २, ३६; ४, ६१; महा; उव) ।  
कम्म. छट्टुज्जइ (पि २६१) । वक्र. छट्टुत्त  
(भाग) । संक्र. छट्टुत्तं भूमीए खीरे जह पियइ  
ट्टुमज्जारी (विसे १४७१) । छट्टुत्त (वव २) ।  
छट्टुण न [छट्टेण, मोचन] ? परिव्याण,  
विमोचन (उप १७६; श्रौष ८६) । २ वमन,  
वान्ति (विपा १, ८) ।  
छट्टुय वि [छट्टेक] छोड़नेवाला (कुप ३१७) ।  
२ पुं. एक सेठ का नाम (कुप ३६६) ।  
छट्टुयण न [छट्टेण, मोचन] ? छुड़वाना,  
मुक्त करवाना । २ वमन कराना । ३ वि.  
वमन करानेवाला । ४ छुड़ानेवाला (कुमा) ।  
छट्टुयवि वि [छट्टेक, मोचक] त्याग कराने-  
वाला, त्याजक (दे २, ६२) ।  
छट्टुयण देखो छट्टुयण (सुपा ५१७) ।  
छट्टुयिय वि [छट्टित, मोचित] ? वमन  
कराया हुआ । २ छुड़वाया हुआ (आवम-  
वृह १) ।  
छट्टुि स्त्री [छट्टि] वमन का रोग (पड; हे २,  
३६) ।  
छट्टुि स्त्री [छट्टिस्] छिद्र, रूपण; ‘जो  
जगइ परछाडि, सो नियछट्टीए कि सुयइ’  
(महा) ।  
छट्टुिय वि [छट्टित, मुक्त] ? वान्त,  
छट्टुियहिय वमन किया हुआ । २ त्यक्त,  
मुक्त (विसे २६०६; दे १, ४६; श्रौष) ।  
छण सक [क्षण] हिसा करना । छणे  
(आचा) । प्रयो. छणावेइ (पि ३१८) ।  
छण सक [क्षण] छेदन करना । छणह  
(सूत्र २, १, १७) ।  
छण पुं [क्षण] ? उत्सव, मह (हे २, २०) ।  
२ हिसा (आचा) । °चंद पुं [°चन्द्र] अरद

ऋतु को पूर्णिमा का चन्द्रमा (स ३७१) ।  
°ससि पुं [°शशिन] वही पूर्वोक्त अर्थ  
(सुपा ३०६) ।

छणण न [छणन] हिसन, हिसा (आचा) ।

छणिट्ट पुं [क्षणेन्दु] शरद ऋतु की पूर्णिमा  
का चन्द्र (सुपा ३३; ४०४) ।

छणण वि [छन्न] १ गुप्त, प्रच्छन्न, छिपाया हुआ  
(बृह १; प्राप) । २ आच्छादित, ढका हुआ  
(गा ५८०) । ३ न. माया, कपट (सूत्र १,  
२, २) । ४ निर्जन, विजन, रहस्य । ५ क्रि.वि.  
गुप्त रीति से, प्रच्छन्न रूप से;

°जं छणणं आयरियं,

तइया जणणीए जोव्वणमएण ।

ते पांडव (? यडि) जजइ

इएह सुएहि सीलं चयंतेहि'

(उप ७२८ टी) ।

छणणालय न [दे. पण्णालक] त्रिकाण्टिक,  
तिपाई, संन्यासियों का एक उपकरण (भग;  
श्रीप; शाया १, ५) ।

छत्त न [छत्र] छाता, आतपात्र (शाया १,  
५; प्रासू ५२) । °धार पुं [°धार] छाता  
धारण करनेवाला नौकर (जीव ३) । °पडागा  
व्री [°पताका] १ छत्र-युक्त ध्वज । २ छत्र  
के ऊपर की पताका (श्रीप) । °पलासय न  
[°पलाशक] कृतमंगला नगरी का एक चैत्य  
(भग) । °भंग पुं [°भङ्ग] राज-नाश, नृप-  
मरण (राज) । °हार देखो °धार (भावम) ।  
°इच्छत्त न [°तिच्छत्र] १ छत्र के  
ऊपर का छाता (सम १३७) । २ पुं-  
ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध योग-विशेष (सुज १२) ।

छत्त न [छत्र] लगातार तैतीस दिनों का उप-  
वास (संवाप ५८) । पुंन. एक देवविमान  
(देवेन्द्र १४०) । ३ पुं. ज्योतिष प्रसिद्ध एक  
योग जिसमें चन्द्र-आदि ग्रह छत्र के आकार  
से रहते हैं (सुज १२—पत्र २३३) । °इल  
वि [°वत्] छातावाला (सुख २, १३) ।  
°कार वि [कार] छाता बनानेवाला शिल्पी  
(अणु १४६) । °ग पुंन [°क] वनस्पति-  
विशेष (सूत्र २, ३, १६) ।

छत्त पुं [छात्र] विद्यार्थी, अभ्यासी (उप पु  
३३१; १६६ टी) ।

छत्तंतिया व्री [छत्रान्तिका] परिपद-विशेष,  
सभा-विशेष (बृह १) ।

छत्तच्छद्वय (अप) पुं [सप्तच्छद] वृक्ष-विशेष,  
सतौना, छत्तिवन (सण) ।

छत्तधन्न न [दे] घास, तृण (पात्र) ।

छत्तवण्ण देखो छत्तिवण्ण (प्राप्र) ।

छत्ता व्री [छत्रा] नगरी-विशेष (भावम) ।

छत्तार पुं [छत्रकार] छाता बनानेवाला  
कारीगर (परण १) ।

छत्ताइ पुं [छत्राभ] वृक्ष-विशेष, 'एगगोहस-  
त्तिवरणे, साले पियए पियंमुत्ताहे' (सम  
१५२) ।

छत्ति वि [छत्तिन्न] छत्र-युक्त, छातावाला  
(भास ३३) ।

छत्तिवण्ण पुं [सप्तपर्ण] वृक्ष-विशेष, सतौना,  
छत्तिवन, (हे १, २६५; कुमा) ।

छत्तोय पुं [छत्रौक] वनस्पति-विशेष, वृक्ष-  
विशेष (परण १—पत्र ३५) ।

छत्तोय पुं [छत्रोप] वृक्ष-विशेष (श्रीप; अंत) ।

छत्तोह पुं [छत्रौव] वृक्ष-विशेष (श्रीप; परण  
१—पत्र ३१; भग) ।

छदमत्थ देखो छउमत्थ (द्रव्य ४४) ।

छद्वयग देखो छडुवण (राज) ।

छदसम वि [पड्दश] छः या दश (सूत्र २,  
२, २१) ।

छदी व्री [दे] शय्या, विछौना (दे ३, २४) ।

छन्न वि [क्षण] हिंसा-प्रवान, हिंसा-जनक  
(सूत्र १, ६, २६) ।

छन्न देखो छण्ण (कप्प; उप ६४८ टी; प्रासू  
८२) ।

छप्पइगिल्लि वि [पट्पदिकावत्] युका-युक्त  
युकावाला (बृह ३) ।

छप्पइया व्री [पट्पदिका] युका, झूँ (श्रीप  
७२४) ।

छप्पंती व्री [दे] नियम-विशेष, जिसमें पक्ष  
लिखा जाता है (दे ३, २५) ।

छप्पण्ण } वि [दे. पट्पदिक] विदग्ध,  
छप्पण्णय } चतुर, चालाक (दे ३, २४;  
पात्र; वजा ५८) ।

छप्पत्तिआ व्री [दे] १ चपत, थप्पड़,  
तमाचा । २ चपाती, रोटी, फुलंका;

'छप्पत्तिआवि खज्जइ,

निप्पत्ते पुत्ति ! एव्य को देसो ? ।

निअपुरिसेवि रमिज्जइ,

परपुरिसविवज्जिए गामे'

(गा ८८७) ।

छप्पन्न [दे] देखो छप्पण्ण (जय ६) ।

छप्पय पुं [पट्पद] १ अमर, भौरा (हे १,  
२६५; जीव ३) । २ वि. छः स्थानवाला ।  
३ छः प्रकार का (विसे २८६१) । ४ न.  
छन्द-विशेष (पिण) ।

छव्व } पुंन [दे] पात्र-विशेष (आचा २,  
छव्वग } १, ८, १; पिड ५६१; २७८) ।

छव्वय न [दे] वंश-पिटक, धी वगैरह को  
छानने का उपकरण-विशेष; 'मुइंगाईमक्कोड-  
एहि संसत्तं च नाऊणं । गालेज्ज छव्वएणं'  
(श्रीप ५५८) ।

छव्वभामरी व्री [पट्भ्रामरी] एक प्रकार की  
बोणा (शाया १, १७—पत्र २२६) ।

छमच्छम अक [छमच्छमाय] 'छम-छम'  
श्रावाज करना, गरम चीज पर दिया जाता  
पानी की श्रावाज । छमच्छमइ (वज्जा ८८) ।  
छम° देखो छमा । °रुह पुं [°रुह] वृक्ष, पेड़,  
दरवत (कुमा) ।

छमलय पुं [दे] सप्तच्छद, वृक्ष-विशेष,  
सतौना, छत्तिवन (दे ३, २५) ।

छमा व्री [क्षमा, क्षमा] पृथिवी, धरणी,  
भूमि (हे २, १८) । °हर पुं [°धर] पर्वत,  
पहाड़ (पड) । देखो छम° ।

छमी व्री [शमी] वृक्ष-विशेष, अरिन-गभं वृक्ष  
(हे १, २६५) ।

छम्म देखो छउम (हे २, ११२; पड; पउम  
४०, ५; सण) ।

छम्मूह पुं [पण्मुख] १ स्कन्द, कार्तिकेय (हे  
१, २६५) । २ भगवान् विमलनाय का  
अधिष्ठायक देव (संति ८) ।

छय न [छद] १ पर्ण, पत्ती, पत्र, पत्ता (श्रीप) ।  
२ आवरण, आच्छादन (से ६, ४७) ।

छय न [क्षत] १ ब्रण, घाव (हे २, १७) ।  
२ पीड़ित, त्रणित (सूत्र १, २, २) ।

छयल्ल [दे] देखो छइल्ल (रंभा) ।

छरु पुं [त्सरु] खड्ग-मुष्टि, तलवार का हाथा  
(परह १, ४) । °पव्वाय न [°प्रवाद]  
खड्ग-शिक्षा-शास्त्र (जं २) ।

छलं देखो छ = पप् (कम्म ६, ९) ।  
 छल सक [छलय्] ङना, वञ्चना ।  
 छलज्जेज्जा (स २१३) । संक. छल्लिउं,  
 छल्लिऊण (महा) । क. छल्लिअव्व (धा १४) ।  
 छल न [छल] ? कपट, माया (उव) । २  
 व्याज, वहाना (पात्र; प्रामू ११४) । ३ अर्थ-  
 विघात, वचन-विघात, एक तरह का वचन-  
 युद्ध (सूत्र १, १२) । ४ 'ययण न [ययतन]  
 छल, वचन-विघात (सूत्र १, १२) ।  
 छलंस वि [पडस] पट्-कोण, छः कोणवाला  
 (ठा ८) ।  
 छलंसिअ वि [पडसिक] छः कोणवाला  
 (सूत्र २, १, १५) ।  
 छलण न [छलन] प्रक्षेपण, फेंकना (आचानि  
 ३११) ।  
 छलण न [छलन] ठगाई, वञ्चना (सुर ६,  
 १८१) ।  
 छलणा वी [छलना] ? ठगाई, वञ्चना  
 (श्रोत्र ७८५; उप ७७६) । २ छल, माया,  
 कपट (वित्ते २५४५) ।  
 छलस्थ वि [पडर्थ] छः अर्थवाला (वित्ते  
 ९०१) ।  
 छलसीअ वीन [पडशीति] संख्या-विशेष,  
 अस्ती और छः, ८६ (मग) ।  
 छलसीइ वी. ऊपर देखो (सम ९२) ।  
 छल्लिअ वि [छल्लित] ? वञ्चित, विप्रतारित,  
 ठगा हुआ (मवि; महा) । २ शृङ्गार-काव्य ।  
 ३ चोर का इशारा, तस्कर-संज्ञा (राज) ।  
 छल्लिअ वि [दे] विदग्ध, चालाक, चतुर (दे  
 ३, २४; पात्र) ।  
 छल्लिअ न [छल्लिक] नाट्य-विशेष (मा ४) ।  
 छल्लिअ वि [स्खलित] स्खलन-प्राप्त (श्रोत्र  
 ७८९) ।  
 छल्लिया देखो छल्लिया; 'चीणाकूरं छल्लियात-  
 क्केण दिन्नं' (महा) ।  
 छल्लुअ } पुं [पडुल्लूक] वैशेषिक मत-प्रव-  
 छल्लुग } त्तक-कणाद अपि (कप्प; ठा ७;  
 छल्लुअ } वित्ते २३०२); 'द्वन्वाइछप्पयत्यो-  
 वएसणाओ छल्लुअत्ति' (वित्ते २५०८; २४५५) ।  
 छल्ली वी [दे] त्वचा, बल्कल, छाल (दे ३,  
 २४; वी १३; गा ११५; ठा ४, १; णाया  
 १, १३) ।

छल्लुय देखो छल्लुअ (पि १४८) ।  
 छय देखो छिय । छयम (सुभा ५७३) ।  
 छयडी वी [दे] चर्म, चाम, चमड़ा (दे ३,  
 २५) ।  
 छयि वी [छयि] ? कान्ति, तेज (कुमा;  
 पात्र) । २ अंग, शरीर (पएह १, १) ।  
 चर्म, चमड़ा (पात्र; जीव ३) । ४ अवयव  
 (पडि) । ५ अंगी, शरीरी (ठा ४, १) । ६  
 अलङ्कार-विशेष (अणु) । ७ च्छेअ पुं  
 [च्छेद] अङ्ग का विच्छेद, अवयव-कर्तन  
 (पडि) । ८ च्छेयण न [च्छेदन] अंग-  
 च्छेद (पएह १, १) । ९ चाण न [त्राण]  
 चमड़ी का आच्छादन, कवच, वर्म (उत्त २) ।  
 छयिअ वि [स्पृष्ट] छूआ हुआ (आ २७) ।  
 छयिपव्व न [छयिपव्वन्] औदारिक शरीर  
 (उत्त ५, २४) ।  
 छयीइय वि [छयिमत्] ? कान्तिवाला ।  
 २ घन, निविड़ (आचा २, ४, २, ३) ।  
 छय्यग [दे] देखो छय्यय (राज) ।  
 छय्यिअ वि [दे] पिहित, आच्छादित (गउड) ।  
 छह (अप) देखो छ + पप् (पि ४४१) ।  
 छहत्तर वि [पट्सप्तत] छिहत्तरवां, ७६ वां  
 (पउम ७६, २७) ।  
 छहत्तरि वी [पट्सप्तति] छिहत्तर, ७६ (पव  
 १९) ।  
 छाअ देखो छाव (प्राक १५) ।  
 छाइअ वि [छादित] आच्छादित, ढका हुआ  
 (पउम ११३, ५४; कुमा) ।  
 छाइल्ल वि [छायावत्] छायावाला, कान्ति-  
 युक्त (हे २, १५९; पड्) ।  
 छाइल्ल पुं [दे] ? प्रदीप, दीपक; 'जोइल्लं  
 तह छाइल्लयं च दीवं मुणैज्जाहि' (वव ७; दे  
 ३, ३५) । २ वि. सदृश, समान, तुल्य । ३  
 जन, अधूरा (दे ३, ३५) । ४ सुख, सुडौल,  
 स्वप्नान् (दे ३, ३५; पड्) ।  
 छाई देखो छाया (पड्) ।  
 छाई वी [दे] माता, देवी, देवता (दे ३,  
 २६) ।  
 छाउमत्थ न [छादुमत्थय] छयस्य-अवस्था  
 (सट्ठि ९ टी) ।  
 छाउमत्थिय वि [छादुमत्थिक] केवलज्ञान  
 उत्पन्न होने के पहले की अवस्था में उत्पन्न,

सर्वज्ञता की पूर्ववस्था से संवन्ध रखनेवाला  
 (सम ११; पाण ३६) ।  
 छायावग वि [छायोपग] ? छाया-युक्त,  
 छायावाला (वृक्षादि) २ पुं. सेवनीय पुरुष,  
 माननीय पुरुष (ठा ४, ३) ।  
 छागल वि [छागल] ? अज-संबन्धी (ठा ५,  
 ३) । २ पुं. अज, वकरा । वी. °ली (पि  
 २३१) ।  
 छागलिय पुं [छागलिक] छागों से आजीविका  
 करनेवाला, अजा-पालक (विपा १, ४) ।  
 छाग न [दे] ? वान्य वगैरह का मलना (दे  
 ३, ३४) । २ गोमय, गोबर (दे ३, ३४;  
 नुर १२, १७; णाया १, ७; जीव १) । ३  
 वज्र, कपड़ा (दे ३, ३४; जीव ३) ।  
 छागण न [दे] दानना, गालन; 'भूमिपेहण-  
 जलछाणणाई जयणाओ होइ न्हाणाई' (सट्ठि  
 ४५ टी) ।  
 छाणवइ (अप) देखो छणवइ (पिग) ।  
 छाणी वी [दे] ? वान्य वगैरह का मलन ।  
 २ वज्र, कपड़ा (दे ३, ३४) । ३ गोमय,  
 गोबर (दे ३, ३४; वर्म २) ।  
 छाणी वी [दे] कंडा, गोबर का इन्धन (पव  
 ३८) ।  
 छाय वि [छात] ब्रह्माङ्कित, धाववाला (दस  
 ६, २, ७) ।  
 छाय सक [छाद्य] आच्छादन करना,  
 ढकना । छापइ (हे ४, २१) । वक्. छायांत  
 (पउम ७, १४) ।  
 छाय वि [दे. छात] ? कुमुदित, भूखा (दे  
 ३, ३३; पात्र; उप ७६८ टी; श्रोत्र २९०  
 भा) । २ कुरा, दुर्बल (दे ३, ३३; पात्र) ।  
 छायांसि वि [छायावत्] कान्तिमान्,  
 तेजस्वी (सम १५२) ।  
 छायाण न [छादन] आच्छादन, ढकना (पिग;  
 महा; सं ११) ।  
 छायाण न [छादन] ? घर की छत, छाजन  
 (पिड ३०३) । २ ढकन, आवरण । ३ वज्र,  
 कपड़ा (सुख ७, १५) ।  
 छायाणिया } वी [दे] बेरा, पड़ाव, धावनी;  
 छायाणी } 'तो तत्थेव डिओ एसो कुणित्ता  
 निहछायणि' (आ १२; महा) ।

झाया ली [झाया] १ आतप का अभाव, छाँह (पात्र) । २ कान्ति, प्रभा, दीप्ति (हे १, २४६; श्रौप; पात्र) । ३ शोभा (श्रौप) । ४ प्रतिविम्ब, परछाईं (प्रासू ११४; उक्त २) । ५ धूप-रहित स्थान, अनातप देश (ठा २, ४) । १ गड ली [गति] १ झाया के अनुसार गमन । २ झाया के अवलम्बन से गति (परण १६) । १ पास पुं [पाश्व] हिमाचल पर स्थित भगवान् पारवनाय की मूर्ति (ती ४५) ।  
 झाया ली [दे] १ कौत्ति, यश, ह्याति । २ अमरी, भमरो, भौरी (दे ३, ३४) ।  
 झायाइत्तय वि [झायावन्] झायावाला, झाया-युक्त । ली. १ इत्तिआ (हे २, २०३) ।  
 झायाला ली [पट्त्वार्तिशन्] झियालीस, चालीस और छः, ४६ (भग) ।  
 झायालीस बीन. ऊपर देखो (सम ६६; कप) ।  
 झायालीस वि [पट्त्वार्तिश] झियालीसवाँ, ४६ वाँ (पउम ४६, ६६) ।  
 झार वि [क्षार] १ पिघलनेवाला, भरनेवाला । २ खारा, लवण-रसवाला । ३ पुं. लवण, नोन, नमक । ४ सजी, सजीखार । ५ गुड़ (हे २, १७; प्राप्र) । ६ भस्म, भूति (विसे १२५६; स ४४; प्रासू १४५; णाया १, २) । ७ मात्सर्य, असहिष्णुता (जीव ३) ।  
 झार पुं [दे] अच्छभल्ल, भालूक (दे ३, २६) ।  
 झारय देखो झार (था २७) ।  
 झारय न [दे] १ इक्षु-शल्क, ऊख की छाल (६, ३, ३४) । २ मुकुल, कली (दे ३, ३४; पात्र) ।  
 झारिय वि [झारिक] क्षार-सम्बन्धी (दस ५, १, ७) ।  
 झाल पुं [झाग] अज, वकरा (हे १, १६१) ।  
 झालिया ली [झागिका] अजा, झानी (सुर ७, ३०; सण) ।  
 झाली ली [झागी] ऊपर देखो (प्रामा) ।  
 झाय पुं [शाव] बालक, बच्चा, शिशु (हे १, २६५; प्राप्र; वव १) ।  
 झायण देखो झायण (वृह १) ।  
 झावट्टि ली [पट्पट्टि] झाछठ, झियासठ, ६६ (सम ७८; विसे २७६१) ।  
 झावत्तरि ली [पट्सप्रति] झिहत्तर, सत्तर

और छः ७६ (पउम १०२, ८६; सम ८५) ।  
 १ म वि [०तम] झिहत्तरवाँ (भग) ।  
 झावलिय वि [पडावलिक] छः आवलिका-परिमित समयवाला (विसे ५३१) ।  
 झासट्ट वि [पट्पट्ट] झियासठवाँ (पउम ६६, ३७) ।  
 झासी ली [दे] झाछ, तक, मट्टा (दे ३, २६) ।  
 झासीइ ली [पडशीति] झियासी, अस्ती और छः । १ म वि [०तम] झियासीवाँ, ८६ वाँ (पउम ८६, ७४) ।  
 झाहत्तरि (अप) देखो झावत्तरि (पि २४५) ।  
 झाहत्तरि देखो झावत्तरि (पव २३६) ।  
 झाहा ली [झाया] १ छाँह, आतप झाहिया का अभाव । २ प्रतिविम्ब, परछाईं झाही (पड; प्राप्र; सुर २, २४७; ६, ६५; हे १, २४६; गा ३४) ।  
 झाही ली [दे] गगन, आकाश । १ मणि पुं [मणि] सूर्य, सूरज (दे ३, २६) ।  
 झिअ देखो झीअ (दे ८, ७२; प्रामा) ।  
 झिअई ली [दे] असती, कुलटा (हे २, १७४; गा; ३०१; ३५०; पात्र; धर्मरत्न-लघुवृत्तिपत्र ३१, १) ।  
 झिअटरमण न [दे] क्रीड़ा-विशेष, चक्षु-स्वयन की क्रीड़ा (दे ३, ३०) ।  
 झिअय पुं [दे] १ देह, शरीर । २ जार, उपपति । ३ न. फल-विशेष, शलाटु-फल (दे ३, ३६) ।  
 झिअली ली [दे] छोटा जल-प्रवाह (दे ३, २७; पात्र) ।  
 झिअ न [दे] १ चूड़ा, चोटी (दे ३, ३५; पात्र) । २ छत्र, छाता । ३ धूप-यन्त्र (दे ३, ३५) ।  
 झिअआ ली [दे] १ वाड़ का छिद्र । २ अपवाद; 'छ झिअआओ जिणसासणम्मि' (पव १४८; था ६) ।  
 झिअी ली [दे] वाड़ का छिद्र (णाया १, २—पत्र ७६) ।  
 झिअ सक [झिअ] छेदना, विच्छेद करना । छिदइ (प्राप्र; महा) । भवि. छेच्छं (हे ३, १७१) । कर्म. छिजइ (महा) । वक. झिअमाण (णाया १, १) । कवक. झिअंत, झिअमाण (था ६; विपा १, २) । संक.

झिअिऊण, झिअित्ता, झिअित्तु, झिअिय, छेत्तूण (पि ५८५; भग १४, ८; पि ५०६; ठा ३, २; महा) । क. झिअियव्य (परह २, १) । हेक. छेत्तुं (आचा) ।  
 झिअण न [छेअन] छेद, खरअन, कतंन (श्रौव १५४ भा) ।  
 झिअावण न [छेअन] कटवाना, दूसरे द्वारा छेदन कराना (महानि ७) ।  
 झिअाविय वि [छेअित] विच्छिन्न कराया गया (सं २२६) ।  
 झिअय पुं [झिअपक] कपड़ा छापने का काम करनेवाला (दे १, ६८; प्राप्र) ।  
 झिअ न [दे] क्षुत, छोक (दे ३, ३६; कुमा) ।  
 झिअ वि [दे. छुअ] स्पृष्ट, हुआ हुआ (दे ३, ३६. हे २, १३८; से ३, ४६; स ४४४) । १ परोइया ली [०प्रोदिका] वनस्पति-विशेष (विसे १७५४) ।  
 झिअ वि [झीत्कृत] छों-छों आवाज से आहूत; 'पुविंविं वीरसुणिया झिअिकाझिअिका पहावए तुरियं' (श्रौव १२४ भा) ।  
 झिअंत वि [दे] छोक करता हुआ (सुपा ११६) ।  
 झिअा ली [दे] झिअा, छोक (स ३२२) ।  
 झिअारिअ वि [झीत्कारित] छों-छों आवाज से आहूत, अव्यक्त आवाज से बुलाया हुआ (श्रौव १२४ भा टी) ।  
 झिअिय न [दे] छोकना, छोक करना (स ३२५) ।  
 झिअोअण वि [दे] असहन, असहिष्णु (दे ३, २६) ।  
 झिअोट्टली ली [दे] १ पैर की आवाज । २ पाँव से धान्य का मलना । ३ गोइठा का टुकड़ा, गोवर-खरअड (दे ३, ३७) ।  
 झिअकोलिअ वि [दे] तनु, पतला, कुरा (दे ३, २५) ।  
 झिअकोवण [दे] देखो झिअोअण (ठा ६—पत्र ३७२) ।  
 झिअा (शौ) सक [छुप्] हूना । झिअादि (प्राक ६३) ।  
 झिअोलय पुं [दे] देखो झिअोल्ल (पात्र) ।  
 झिअअई देखो झिअई (पड) ।  
 झिअअय देखो झिअय (पड) ।

छिच्छिकार पुं [छिच्छिकार] निवारण-सूचक  
या घृणा-सूचक शब्द, छि, छि (पिंड ४५१)।  
छिछि अ [दे धिक्धिक्] छि छि, विक-  
विक, अनेक विवकार (हे २, १७४; पड)।  
छिज्ज देखो छिद = छिद। हेकू. छिज्जिउं  
(तंडु)।  
छिज्ज वि [छेद्य] १ खरिडत किया जा सके।  
२ छेदने योग्य (सूत्र २, ५)। ३ न. छेद,  
विच्छेद, द्विवाकरण; 'पावंति वंभवहरोहछिज्ज-  
मरणावसाणाइ' (श्रौष ४६ भा; पुष्प  
१८६)।  
छिज्जंन वि [क्षीयमाण] क्षय पाता, दुर्बल  
होता; 'छिज्जंतेहि श्रणुदिणं, पच्चक्खम्मि वि  
तुमम्मि अंगेहि' (गा ३४७)।  
छिज्जंत } देखो छिद  
छिज्जमाण }

छिड्डु न [छिद्र] १ छिद्र, विवर (पउम २०,  
१६२; अनु ६; उप पृ १३८)। २ अक्काश,  
अवसर (परह १, ३)। ३ डूपण, दोष (सुपा  
३६०)। °पाणि पुं [°पाणि] एक प्रकार  
का जैन साधु (आचा २, १, ३)।  
छिड्डु पुंन [छिद्र] आकाश, गगन (भग २०,  
२—पत्र ७७५)।  
छिण्ण देखो छिन्न (आया १, १८; सूत्र  
१, ८)।  
छिण्ण पुं [दे] जार, उपपत्ति (दे ३, २७;  
पड)।  
छिण्णच्छोडण न [दे] शीघ्र, तुरन्त, जल्दी  
(दे ३, २६)।  
छिण्णयड वि [दे] टंक से छिन्न (पात्र)।  
छिण्णा स्त्री [दे] असती, कुलटा (दे ३, २७)।  
छिण्णाल पुं [दे] जार, यार, उपपत्ति, छिनाला  
या छिनरा (दे ३, २७; पड)।  
छिण्णालिआ } स्त्री [दे] असती, कुलटा,  
छिण्णाली } पुंश्चली, छिनारी, छिनाल,  
व्यभिचारिणी। (मृच्छ ५५; दे ३, २७)।  
छिण्णोत्थया स्त्री [दे] हवा, हव (वास),  
वाम (दे ३, २६)।  
छिन्त देखो खित्त = क्षेत्र (श्रौष; उप. ८३३  
टी; हेका ३०)।  
छित्त वि [दे] स्पष्ट, छूया हुआ (दे ३, २७;  
गा १३; सुपा ५०४; पात्र)।

छित्तर [दे] देखो छेत्तर (स ८; २२३;  
उप पृ ११७; ५३० टी)।  
छित्ति स्त्री [छित्ति] छेद, विच्छेद, खरिडन  
(विसे १४५८; लहुम ५)।  
छित्तु वि [छेत्तु] छेदनेवाला (पव १)।  
छिद्द देखो छिड्डु (आया १, २; ठा ५, १;  
पउम ६४, ६)।  
छिद्द पुं [दे] छोटी मछली (दे ३, २६)।  
छिद्दिय वि [छिद्रित] छिद्र-युक्त, छिद्रवाला  
(गउड)।  
छिद्र वि [छिन्न] १ खरिडत, घुटित, छेद-युक्त  
(भग; प्राप् १४६)। २ निर्धारित, निश्चित  
(वृह १)। ३ न. छेद, खरिडन (उत्त १५)।  
°गन्ध वि [°गन्ध] स्नेह-रहित, स्नेह-मुक्त  
(परह २, ५)। २ पुं. त्यागी, साधु, मुनि,  
निर्गन्ध (ठा ९)। °च्छेद्य पुं [°च्छेद्य] नय-  
विशेष, प्रत्येक सूत्र को दूसरे सूत्र की अपेक्षा  
से रहित माननेवाला मत (एंदि)। °द्वाणंतर  
वि [°ध्वान्तर] मार्ग-विशेष, जहाँ गाँव,  
नगर वगैरह कुछ भी न हो ऐसा रास्ता (वृह  
१)। °मडंय वि [°मडन्य] जिस गाँव या  
शहर के समीप में दूसरा गाँव वगैरह न हो  
(निह १०)। °रुह वि [°रुह] काट कर  
बोने पर भी पैदा होनेवाली वनस्पति (जीव  
१०; पएण ३६)।  
छिन्नाल वि [दे] हल की जात का बेल आदि  
(उत्त २७, ७)।  
छिन्नालिगा } स्त्री [दे] स्थलचर पक्षि-विशेष  
छिन्नालिगा } (अंन वि. अ० ५८)। देखो  
छिण्णालिआ।  
छिप्प न [क्षिप्र] जल्दी, शीघ्र। °तूर न  
[°तूर्य] शीघ्र। २ बजाया जाता एक वाजा,  
तुरही (विपा १, ३; आया १, १८)।  
छिप्प न [दे] १ भिन्ना, भौव (दे ३, ३६;  
सुपा ११५)। २ पुच्छ, लांगूल (दे ६, ३६;  
पात्र)।  
छिप्पंत देखो छिव = स्पृश।  
छिप्पंती स्त्री [दे] १ व्रत-विशेष। २ उत्सव-  
विशेष (दे ३, ३७)।  
छिप्पंदूर न [दे] १ गोमय-खरिड, गोबर-  
खरिड। २ वि. विपम, कठिन (दे ३, ३८)।

छिप्पाल पुं [दे] सस्यानक्त बेल, खाने में लगा  
हुआ बेल (दे ३, २८)।  
छिप्पालुअ न [दे] पूँछ, लांगूल (दे ३,  
२६)।  
छिपिंडी स्त्री [दे] १ व्रत-विशेष। २ उत्सव-  
विशेष। ३ पिष्ट. पित्तान (दे ३, ३७)।  
छिपिअ वि [दे] क्षरित, भरा हुआ, टपका  
हुआ (पात्र)।  
छिप्पीर न [दे] पलाल, पुयाल, तृण (दे ३,  
२८)।  
छिप्पीली स्त्री [दे] अजादि की विष्ठा (विचू १)।  
छिप्प सक्त [क्षिप्] फँकना। छिप्पंति  
(सूत्र १, ५, २, १२)।  
छिमिच्छिमिच्छिम अक [छिमिच्छिमाय्]  
'छिम-छिम' आवाज करना। वक्र. छिमि-  
छिमिच्छिमंत (पउम २६, ४८)।  
छिरां स्त्री [शिरा] नख, नाड़ी, रण (ठा २,  
१; हे १, २६६)।  
छिरि पुं [दे] भालू की आवाज (पउम ६४,  
४५)।  
छिह्ल न [दे] १ छिद्र, विवर (दे ३, ३५;  
पड)। २ कुटी, कुटिया, छोटा घर। ३  
वाड़ का छिद्र (दे ३, ३५)। ४ पलाय का  
पेड़ (तो ६)।  
छिह्लर न [दे] पल्लव, छोटा तलाव (दे ३,  
२८; सुर ४, २२६)।  
छिह्लर वि [दे] अक्षर, छिछरं, खालरं।  
छिह्ली स्त्री [दे] शिखा, चोटी (दे ३, २७)।  
छिव सक्त [स्पृश] स्पर्श करना, छूना।  
छिवइ (हे ४, १८२)। कर्म. छिप्पइ, छिवि-  
जइ (हे ४, २५७)। वक्र. छिवंत (गा  
२६६)। कवक. छिप्पंत, छिविज्जमाण  
(कुमा; गा ४४३; स ६३२; आ १२)।  
छिवट्टु [दे] देखो छेवट्टु (कम्म २, ४)।  
छिवण न [स्पर्शन] स्पर्श, छूना (उप १८७  
टी; ६७७)।  
छिवा स्त्री [दे] श्लक्ष्ण कप, चीकना चाबुक  
'छिवापहारेय' (आया १, २—पत्र ८६;  
परह १, ३; विवा १, ६)।  
छिवाडिआ } स्त्री [दे] १ वल्लि वगैरह की  
छिवाडी } फली, सीम या सेन (जं १)। २  
पुस्तक-विशेष, पतले पन्नेवाली कँची पुस्तक,

जिसके पन्ने विशेष लम्बे और कम चौड़े हों  
ऐसी पुस्तक (ठा ४, २; पव ८०)।

द्विविध वि [स्पृष्ट] १ छूया हुआ (दे ३,  
२७) २ न. स्पर्श, छूना (सि २, ८)।

द्विविध न [दे] ईत का दुकड़ा (दे ३, २७)।

द्विविध अ [दे] देखो द्विविध (गा ६०५  
अ)।

द्विविध वि [दे] कृत्रिम, बनावटी (दे ३,  
२७)।

द्विविध न [दे] १ निन्दार्थक मुख-विकृणन,  
अवचि-प्रकाशक मुख-विकार-विशेष। २ विकृ-  
णित मुख (दे ३, २८)।

द्विह सक [स्पृश] स्पर्श करना, छूना।  
द्विह (हे ४, १८२)।

द्विहंड न [शिखण्ड] मयूर की शिखा (गाया  
१, १—पत्र ५७ टी)।

द्विहंड अ पुं [दे] दही का बना हुआ मिष्ठान,  
दधिसर; गुजराती में जिसे 'सिखंड' कहते हैं  
(दे ३, २९)।

द्विहंडि पुं [शिखण्डिन] १ मयूर, मोर।  
२ वि. मयूरपिच्छ को धारण करनेवाला  
(गाया १, १—पत्र ५७ टी)।

द्विहली स्त्री [दे] शिखा, चोटी (वृह ४)।

द्विहा स्त्री [स्पृहा] स्पृहा, अमिलाप (कुमा;  
हे १, १२८; पड)।

द्विहिंडिभिन्न न [दे] दधि, दही (दे ३,  
३०)।

द्विहिअ वि [स्पृष्ट] छूया हुआ (कुमा)।

द्वीअ स्त्री [क्षुत] छिन्का, छींक (हे १,  
११२; २, १७; श्लो ६४३; पडि)। स्त्री,  
आ (श्रा २७)।

द्वीअमाण वि [क्षुवत्] छींक करता (आचा  
२, २, ३)।

द्वीण वि [क्षीण] क्षय-प्राप्त, कृश, दुर्बल (हे  
२, ३; गा ८४)।

द्वीयंत वि [क्षुवत्] छींक करता (ती ८)।

द्वीर न [क्षीर] जल, पानी। २ दुग्ध, दूध  
(हे २, १७; गा ५६७)। विराली स्त्री  
[विडाली] वनस्पति-विशेष, भूमि-कूष्माण्ड  
(परण १—पत्र ३५)।

द्वीरल पुं [क्षीरल] हाथ से चलनेवाला एक  
तरह का तन्तु, साँप की एक जाति (परह  
१, १)।

द्वीवोहअ [दे] देखो द्विवोह (गा ६०३)।

द्वु सक [क्षुद्] १ पीसना। २ पीलना।  
कर्म. छुजइ (जव)। कवक. छुजमाण (संया  
६०)।

द्वुअ देखो द्वीअ (प्राप्र)।

द्वुअ देखो द्वुव। द्वुअइ (प्राक ७६)।

द्वुई स्त्री [दे] बलाका, बकपत्ति (दे ३, ३०)।

द्वुई स्त्री [दे] कपिकच्छु; केवांच का पड़  
(दे ३, ३४)।

द्वुमुसय न [दे] रणरणक, उत्सुकता,  
उत्कण्ठा (दे ३, ३१)।

द्वुंद वि [आ + क्रम्] आक्रमण करना।  
द्वुंदइ (हे ४, १६०; पड)।

द्वुंद सक [दे] वहु, प्रभूत (दे ३, ३०)।

द्वुक्कारण न [धिककारण] धिक्कारना,  
निंदा (वृह २)।

द्वुच्छ वि [तुच्छ] तुच्छ, क्षुद्र, हलका (हे  
१, २०४)।

द्वुच्छुक्कर सक [द्वुच्छु + कृ] 'द्वुच्छु'  
आवाज करना, शवानादि को बुलाने को  
आवाज करना। द्वुच्छुक्करेंति. (आचा)।  
द्वुजमाण देखो द्वु।

द्वुट्ट अक [द्वुट्ट] दूटना, वन्धन-मुक्त होना।  
द्वुट्टइ (भवि)। द्वुट्टइ (धम्म ९ टी)।

द्वुट्ट वि [द्वुट्टित] दूटा हुआ, वन्धन-मुक्त  
(सुपा ४०७; सूक्त ८६)।

द्वुट्ट वि [दे] छोटा, लघु (प्राप्र)।

द्वुट्टण न [द्वोटन] दूटकारा, मुक्ति (श्रा  
२७)।

द्वुट्ट वि [दे] १ लिप्त। २ क्षिप्त, फेंका हुआ  
(भवि)।

द्वुट्ट अ [दे] १ यदि, जो (हे ४, ३८५;  
४२२)। २ शीघ्र, तुरन्त (हे ४, ४०१)।

द्वुट्ट वि [क्षुद्र] क्षुद्र, तुच्छ, हलका, लघु  
(श्लोप)।

द्वुट्टिया स्त्री [क्षुद्रिका] आभरण-विशेष  
(परह २, ५—पत्र १५६ टी)।

द्वुण्ण वि [क्षुण्ण] १ चूर्णित, चूर-चूर किया  
हुआ। २ विहृत, विनाशित। ३ अभ्यस्त (हे  
२, १७; प्राप्र)।

द्वुत्त वि [द्वुत्त] स्पृष्ट, छूया हुआ (हे २,  
१३८; कुमा)।

द्वुत्ति स्त्री [दे] दूत, अशौच (सूक्त ८६)।

द्वुदहीर पुं [दे] १ शशि, वच्चा, बालक।  
२ शशी, चन्द्रमा (दे ३, ३८)।

द्वुदिया देखो द्वुट्टिया (परह २, ५—पत्र  
१४६)।

द्वुद्ध देखो द्वुद्ध (प्राप्र)।

द्वुद्ध वि [दे] क्षिप्त, प्रेरित (सण)।

द्वुध वि [क्षुध] भूखा (प्राक २२)।

द्वुन्न पुं न [क्षुण्ण] क्लीव, नपुंसक (पिड  
४२५)।

द्वुन्न देखो द्वुण्ण; 'जंतम्मि पावमइणा द्वुन्ना  
अन्नेण कम्मणे' (संया ५६)।

द्वुत्त देखो द्वुव।

द्वुत्त अक [क्षुत्त] क्षुब्ध होना, विचलित  
होना। द्वुत्तंति (पि ६६)।

द्वुत्तमथ [दे] देखो द्वुत्तमथ (दे ३, ३३)।

द्वुत्त देखो द्वुह। द्वुत्त, द्वुत्तइ (महा; स्यण  
२०)। संकृ द्वुत्तंति (पि ६६)।

द्वुत्त देखो द्वुत्त (दसत्त १)।

द्वुत्त सक [द्वुत्त] १ लेप करना, लीपना।  
२ छेदन करना, छेदना। ३ व्याप्त करना  
(वा १२; पजम २८, २८)।

द्वुत्त पुं [द्वुत्त] १ द्युरा, नपित का अक्ष। २  
पशु का नख, द्युरा। ३ वृक्ष-विशेष,  
गोखरु। ४ वाण, शर, तीर (हे २, १७;  
प्राप्र)। ५ न. तृण-विशेष (परण १)।

द्वुत्त न [द्वुत्त] नापित के द्युरा वगैरह  
रखने की शैली (निचू १)।

द्वुत्त न [द्वुत्त] अवलेपन (कप्पू)।

द्वुत्तंति पुं [दे] नापित, हजाम (दे ३, ३१)।

द्वुत्तंति पुं [दे. द्वुत्तंति] नापित, हजाम  
(दे ३, ३१)।

द्वुत्तिया स्त्री [दे] मृत्तिका, मिट्टी (दे ३, ३१)।  
द्वुत्तिया स्त्री [द्वुत्तिका] द्युरी, चाकू (महा;  
द्वुत्तिया सुपा ३८१; स १४७)।  
द्वुत्तिय वि [द्वुत्तिय] १ व्याप्त। २ लिप्त  
(पजम २८, २८)।

छुरी स्त्री [छुरी] छुरी, चाकू (दे २, ४; प्राप् ६५) ।

छुट्ट देखो छुट्ट (सुपा १५६) ।

छुल्लु-छुल्लु देखो चुल्लु-चुल्लु । छुल्लु-छुल्लु (सूत्रनि ६६ टी) ।

छुय सक [छुप्] स्पर्श करना छुना । कर्म. छुपइ, छुविजइ (हे ४, २४६) । कवक. छुपंत (उप ३३६; ७२८ टी) ।

छुह सक [क्षिप्] फँकना, डालना । छुहइ (उच: हे ४, १४३) । संक. छोट्टण, छोट्टणं (स ८५; विसे ३०१) ।

छुहा स्त्री [सुधा] १ अमृत, पीयूष (हे १, २६५; कुमा) । २ खड़ी, मकान पोतने का श्वेत द्रव्य-विशेष, चूना (दे १, ७८; कुमा) । ०अर पुं [०कर] चन्द्र, चन्द्रमा (पड्) ।

छुहा स्त्री [क्षुध्] क्षुधा, भूख, वृषुजा (हे १, १७; दे २, ४२) ।

छुहाइअ वि [क्षुधित] भूखा, वृषुधित (पाप्र) ।

छुहाउल वि [क्षुदाकुल] ऊपर देखो (गा ५८१) ।

छुहालु वि [क्षुधालु] ऊपर देखो (उप पु १६०; १५० टी) ।

छुहिअ वि [क्षुधित] ऊपर देखो (उच; उप ७२८ टी; प्राप् १८०) ।

छुहिअ वि [दे] लिप्त, पोता हुआ (दे ३, ३०) ।

छुइ वि [क्षिप्त] लिप्त, प्रेरित (हे २, ६२; १२७; कुमा) ।

छुहिअ न [दे] पार्श्व का परिवर्तन (पड्) ।

छेअ सक [छेदय्] १ छिन्न करना । २ तोड़वाना, छेदवाना । कर्म. छेइज्जंति (पि ५४३) । संक. छेएत्ता (महा) ।

छेअ पुं [दे] १ अन्त, प्रान्त, पर्यन्त (दे ३, ३८; पाप्र; से ७, ४८; कम्म १, ३६) । २ देवर, पति का छोटा भाई (दे ३, ३८) । ३ एक देश, एक भाग (से १, ७) । ४ निर्विभाग शंसा (कम्म ४, ८२) ।

छेअ वि [छेक] निपुण; चतुर, हुशियार (पाप्र; प्राप् १७२; श्रौप; शापा १, १) । १यरिय पुं [१ाचार्च] शिलाचार्य, कलाचार्य (भग ७, ६) ।

छेअ वि [दे. छेक] १ विशुद्ध, निर्मल (पंचा ३, ३५; ३८) । २ न. कालोचित हित (धर्म-सं ५४३) ।

छेअ पुं [छेद] १ नाश, विनाश; 'विज्जाच्छेओ कओ मइ' (सुर ५, १६४) । २ खण्ड, विभाग (से १, ७) । ३ छेदन, कर्तन; 'जोहाछेअ' (गा १५३; से ७, ४८) । ४ छ: जैन आगम-ग्रन्थ, वे ये हूँ—निशोयसूत्र, महानिशोयसूत्र, दशा-श्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प, व्यवहारसूत्र, पञ्चकल्पसूत्र (विसे २२६५) । ५ छिन्न विभाग, अलग किया हुआ शंसा (से ७, ४८) । ६ कर्म. न्यूनता (पंचा १६) । ७ प्रायश्चित्त-विशेष (ठा ४, १) । ८ शुद्धि-परीक्षा का एक श्रंग, धर्म-शुद्धि जानने का एक लक्षण, निर्दोष वास्तु आचरण; 'सो छेएण नुदोत्ति' (पंचव ३) । १रिह न [१रिह] प्रायश्चित्त विशेष (ठा १०) ।

छेअअ वि [छेदक] छेदन करनेवाला, छेअग } काटनेवाला (नाट; विसे ५१३) ।

छेअण न [छेदन] १ खण्डन, कर्तन, द्विधा करण (सम ३६; प्राप् १४०) । २ कर्मो न्यूनता, हास (आचा) । ३ शत्रु, हथियार (सूत्र २, ३) । ४ निश्चायक वचन (बृह १) । ५ सूक्ष्म श्रवण (बृह १) । ६ जल-जीव-विशेष (सूत्र २ ३) ।

छेओवट्टावण न [छेदोपस्थापनीय] जैन संयम-विशेष, बड़ी बीसा (नव २६; पंचा ११) ।

छेओवट्टावणिय न [छेदोपस्थापनीय] ऊपर देखो (सक) ।

छेइई [दे] देखो छिइई (गा ३०१) ।

छेइ [दे] देखो छिइ (दे ३, ३५) ।

छेडा स्त्री [दे] १ शिखा, चौटी । २ नव-मालिका, लता-विशेष (दे ३, ३६) ।

छेडी स्त्री [दे] छोटी गली, छोटा रास्ता (दे ३, ३२) ।

छेग देखो छेअ = छेक (दे ३, ४७) ।

छेज्ज देखो छिज्ज (दसनि २; महा) ।

छेज्जा स्त्री [छेया] छेदन-क्रिया (सूत्र १, ४) ।

छेण पुं [दे] स्तेन, चोर (पड्) ।

छेत्त देखो खेत्त (गा ६; उप ३५७ टी; स १६४; भवि) ।

छेत्तर न [दे] मूष वगैरह पुराणा गृहोपकरण (दे ३, ३२) ।

छेत्तलोवणय न [दे] खेत में जागना (दे ३, ३२) ।

छेत्तु वि [छेत्त] छेदनेवाला, काटनेवाला (आचा) ।

छेद देखो छेअ = छेदय् । कर्म. छेदीअंति (पि ५४३) । संक. छेदिऊण, छेदेत्ता (पि ५८६; नग) ।

छेद देखो छेअ = छेद (पउम ४४, ६७; श्रौप; वव १) ।

छेदअ वि [छेदक] छेदनेवाला (पि २३३) ।

छेदण वि [छेदन] छेदन-कर्ता । स्त्री. ०णी (स ७६६) ।

छेदोवट्टावणिय देखो छेओवट्टावणिय (ठा ३, ४) ।

छेध पुं [दे] १ स्यासक, चन्दनादि नुगन्धि वस्तु का विलेपन । २ चोर, चोरो करनेवाला (दे ३, ३६) ।

छेप्प न [दे. शेप] पुच्छ, लान्छल, पुंछ (गा ६२; विपा १, २; गउड) ।

छेभय पुं [दे] चन्दन आदि का विलेपन, स्यासक (दे ३, ३२) ।

छेल पुं स्त्री [दे] अज, छाग, बकरा (दे छेलग } ३, ३२; स १५०) । स्त्री. ०लिआ, छेलय } ०ला (पि २३१; पएह १, १—पत्र १४) ।

छेलावण न [दे] १ उच्छृष्ट हर्ष-ध्वनि । २ वाल-क्रीडन । ३ चीत्कार, ध्वनि-विशेष; 'छेलावणमुक्किट्टाइ वालकीलावणं च सँटाइ' (आवम) ।

छेलिय न [दे] सरियत्त, नाक छोकने का शब्द, अन्यक्त ध्वनि-विशेष (पएह १, ३; विसे ५०१) ।

छेली स्त्री [दे] थोड़े फूलवाली माला (दे ३, ३२) ।

छेवग न [दे] महामारी या मारी वगैरह फँसो हुई बीमारी (वव ५; निचू १) ।

छेवट्ट न [दे. सेवार्त्त, छेदयुत्त] १ छेवट्ट } संहनन-विशेष, शरीर-रचना-विशेष, जिसमें-मर्कट-वन्ध, वेठन और बीसा न होकर यों ही हड्डियाँ आपस में जुड़ी हों ऐसी

शरीर-रचना (सम ४४; १४६; भग; कम्म १, ३६) । २ कर्म-विशेष, जिसके उदय से पूर्वोक्त संहनन की प्राप्ति होती है वह कर्म (कम्म १, ३६) ।

छेवाडी [दे] देखो छिवाडी (पव ८०; निचू १२; जीव ३) ।

छेह पुं [दे. क्षेप] प्रेरण, क्षेपण; 'तो वन्न-परिणामोणअभुमआवल्लभमाणदिट्ठिच्छेहो' (सि १, १७) ।

छेहत्तरि (अप) देखो छाहत्तरि (पिंग) ।

छोअ पुं [दे] छिलका (सुप्र २, १, १६) ।

छोइअ पुं [दे] दास, नौकर (दे ३३) ।

छोइआ ली [दे] छिलका, ईल वगैरह की छाल (उप ७६८ टी); 'उच्छुखंडे पत्तिए छोइयं पणामेइ' (महा) ।

छोकरा ली [दे] छोकरा, लड़की (कुप्र ५३) ।

छोट्टि ली [दे] उच्छिष्टता, जूठाई (पिड ५८७) ।

छोड सक [छोट्ट्य] छोड़ना, वन्धन से मुक्त करना । छोडइ, छोडेइ (भवि; महा) । संक. छोडिवि (सुपा २४६) ।

छोडय वि [दे] छोटा, लघु (वज्जा १६४) ।

छोडाविय वि [छोटित] छुड़वाया हुआ, वन्धन-मुक्त कराया हुआ (स ६२) ।

छोडि ली [दे] छोटी, लघवी, क्षुद्र (पिंग) ।

छोडिअ वि [छोटित] १ छोड़ा हुआ, वन्धन मुक्त किया हुआ; 'वत्वायो छोडियो गंठी' (सुपा ५०४; स ४३१) । २ घटित, ग्राह्य (परह १, ४—पत्र ७८) ।

छोडिअ देखो फोडिअ (श्रीप) ।

छोहूण वि [दे] छोड़कर (कुप्र ३१) ।

छोहूण } देखो छुह ।  
छोहूण }

छोप वि [स्पृश्य] स्पर्श-योग्य, छूने लायक (आचा २, १५, ५) ।

छोवभ पुं [दे] पिशुन, खल, दुर्जन (दे ३, ३३) । देखो छोभ ।

छोवभ वि [क्षोभ्य] क्षोभ योग्य, क्षोभणीय; 'होति सत्तपरिवज्जिया य छोभा (? व्भा) सिप्पकलासमयसत्त्यपरिवज्जिया' (परह १, ३—पत्र ५५) ।

छोवभत्य वि [दे] अप्रिय, अनिष्ट (दे ३, ३३) ।

छोवभाइत्ती ली [दे] १ असुश्रूया, छूने के अयोग्य । २ द्वेष्या, अप्रीतिकर ली (दे ३, ३६) ।

छोभ [दे] देखो छोवभ (दे ३, ३३ टि) । २ निस्सहाय, दीन (परह १, ३—पत्र ५५) ।

३ न. अभ्याख्यान, कलंक-आरोपण, दोषारोप (वृह १; वव २) । ४ न. वन्दन-विरोप, दोषात्मक-रूप वन्दन (गुभा १) । ५ आघात; 'कोत्रेण धमधमंतो वंतच्छोभे ये देइ सो तम्मि' (महा) ।

छोम देखो छुम (साया १, ६—पत्र १५७) ।

छोयर पुं [दे] छोरा, लड़का, छोकरा (उप ४ २१५) ।

छोलिअ देखो छोडिअ = छोटित (पिंग) ।

छोल सक [तक्ष] छीलना, छाल उतारना । छोलइ (पड) । कर्म. छोळिज्जंतु (हे ४, ३६५) ।

छोलण न [तक्षण] छीलना, निस्तुपीकरण, छिलका उतारना (साया १, ७) ।

छोल्लिय वि [तष्ट] छिलका उतारा हुआ, तुप-रहित किया हुआ (उप १७५) ।

छोह पुं [दे] १ समूह, मूय, जत्था । २ विलेप (दे ३, ३६) । ३ आघात; 'ताव य सो मायंगो छोहं जा देइ उत्तरिज्जिमि' (महा) ।

छोह पुं [क्षेप] १ क्षेपण, फेंकना; 'नियदिट्ठि-च्छोहयमयवारहि' (सुपा २६८) ।

छोहर [दे] देखो छोयर (सुपा ५५२) ।

छोहिय वि [क्षोभित] क्षोभ-प्राप्त, घबड़ाया हुआ, व्याकुल किया गया (उप १३७ टी) ।

॥ इय तिरिपाइअसदमहणवम्मि छुआराइसदसंकलणो  
पंचदसमो तरंगो समत्तो ॥

## ज

ज पुं [ज] तालु-स्थानीय व्यंजन वर्ण-विशेष (प्रामा; प्राप) ।

ज ल [यत्] जो, जो कोई (ठा ३, १; जी ८; कुमा; गा १०६) ।

ज वि [°ज] उत्पन्न, 'आसाइयरससेओ होइ विसेसेण ऐहजो दहणो' (गा ७६६); 'आर-भज' (आचा) ।

जअकार पुं [जयकार] जीत, अभ्युदय (प्राक ३०) ।

जअड अक [त्वर] त्वरा करना, शीघ्रता करना । जअडइ (हे ४, १७०; पड) । वक्त. जअडंत (हे ४, १७०) । प्रयो. जअडवति (कुमा) ।

जअल वि [दे] छत्र, आच्छादित, ढका हुआ (पड) ।

जइ पुं [यति] १ साधु, जितेन्द्रिय, संन्यासी (श्रीप; सुपा ४४४) । २ छन्द-शास्त्र में प्रसिद्ध विश्राम-स्थान, कविता का विश्राम-स्थान (धम्म १ टी) ।

जइ वि [यति] जितना (वव १) ।

जइ अ [यदा] जिस समय, जिस वक्त (प्राप्र) ।

जइ अ [यदि] यदि, जो, अगर (सम १५५;



विषा १, १)। °वि अ [°अपि] जो भी (महा)।

जइ अ [यत्र] जहाँ, जिस स्थान में (पड़)।  
जइ वि [जयिन्] जीतनेवाला, विजयी (कुमा)।

जइअव्य वि [जितव्य] जीतने योग्य (प्रवि १२)।

जइआ अ [यदा] जिस समय, जिस वक्त (उच; हे ३, ६५)।

जइच्छा स्त्री [यदृच्छा] ? स्वतन्त्रता। २ स्वेच्छाचार (राज)।

जइण वि [जैन] ? जिन-देव का भक्त, जिन-धर्मो। २ जिन भगवान् का, जिन-देव से संबन्ध रखनेवाला (विसे ३८३; वम्म ६ टी; सुर ८, ६४)। स्त्री. °णी (पंचा ३)।

जइण वि [जयिन्] जीतनेवाला; 'मणुपवण-जइणवेग' (उवा; एया १, १—पत्र ३१)।

जइण वि [जयिन्] वेगवला, वेग-युक्त, त्वरा-युक्त; 'उवइयउपइयचवलजइणसिगवे-गादि' (श्रौप)।

जइत्त वि [जैत्र] ? जीतनेवाला, विजयी (ठा ६)। २ पुं. तृप-विशेष (रंभा)।

जइत्ता देखो जय = जि।

जइय वि [जयिक] जयावह, विजयी (एया १, ८—पत्र १३३)।

जइय वि [यट्ट] याग करनेवाला, 'तुम्हे जइया जन्नाए' (उत्त २५, ३८)।

जययव्य देखो जय = यत्।

जइवा अ [यदि वा] अथवा, या (वव १)।

जइस (अप) वि [याट्टश] जैसा, जिस तरह का (पड़)।

जउ न [जतु] लासा, लाख, लाह (ठा ४, ४; उप पृ २४)।

जउ पुं [यट्ट] ? स्वनाम-ख्यात एक राजा। २ सुप्रसिद्ध क्षत्रिय वंश (उव)। °ण्दण पुं [°नन्दन] ? यदुवंशीय, यदुवंश में उत्पन्न। २ श्रीकृष्ण (उव)।

जउ पुं [यजुप्] वेद-विशेष, यजुर्वेद (अणु)।

जउण पुं [यमुन] स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा (उप ४५७)।

जउण स्त्री [यमुना] भारत की एक जँउण प्रसिद्ध नदी, जमुना (ठा १, २; हे जँउणा १, ४; १७८)।

जउणा देखो जँउणा (वजा १२२; प्राकृ ११)।

जओ अ [यतः] ? क्योंकि, कारण कि, चूँकि (आ २८)। २ जिससे, जहाँ से (प्रासू ८२, १४८)।

जँ अ [यत्] ? क्योंकि, कारण कि। २ वाक्यान्तर का संबन्ध-सूचक प्रव्यय (हे १, २४; महा, गा ६६)। °किञ्चित् ? जो कुछ, जो कोई (पडि; परह १, ३)।

२ असंबद्ध, अयुक्त, तुच्छ, नगण्य (पंचव ४)। जँकयसुकय वि [दे] अल्प मुकुट से प्राप्त, थोड़े उपकार से अर्धान होनेवाला (दे ३, ४५)।

जंगम वि [जंगम] ? चलनेवाला, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता हो वह (ठा ६; भवि)। २ छन्द-विशेष (पिन)।

जंगल पुं [जङ्गल] ? देश-विशेष, सपादलक्ष देश (कुमा; सत्त ६७ टी)। २ निर्जल प्रदेश (वृह १)। ३ न मांस; 'गयकुंभविचारिय-मोतिपहि जं जंगलं किराइ' (वजा ४२)।

जंगा स्त्री [दे] गोचर-भूमि, पशुओं को चरने की जगह (दे ३, ४०)।

जंगिअ वि [जाङ्गमिक] ? जंगम वस्तु से संबन्ध रखनेवाला, जंगम-संबन्धी। २ न. जंगम जीवों के रोम का बना हुआ कपड़ा (ठा ३, ३; ५, ३; कस)।

जंगुलि स्त्री [जाङ्गुलि] विप उतारने का मन्त्र, विप-विद्या (ती ४५)।

जंगुलिय पुं [जाङ्गुलिक] गारुडिक, विपमन्त्र का जानकार, विपहरिया (पउम १०५, ५७)।

जंगोल स्त्री [जाङ्गुल] विप-विघातक तन्त्र, विप-विद्या, आयुर्वेद का एक विभाग जिसमें विप की चिकित्सा का प्रतिपादन है (विपा १, ७—पत्र ७५)। स्त्री. °ली (ठा ८)।

जंघा स्त्री [जङ्घा] जाँघ, जानु के नीचे का भाग (आचा; कप्य)। °चर वि [°चर] पादचारी, पैर से चलनेवाला (अणु)। °चारण पुं [°चारण] एक प्रकार के जैन मुनि, जो अपने तपोबल से आकाश में गमन कर सकते हैं (भग २०, ८; पव ६७)। °संतारिम वि

[संतारिम] जाँघ तक पानीवाला जलाशय (आचा २, ३, २)।

जंघाच्छेअ पुं [दे] चक्कर, चीक (दे ३, ४३)।

जंघामय वि [दे] जंवाल, द्रुत-गामी, वेग जंवालुअ से जतनेवाला (दे ३, ४२; पड़)।

जंवाल वि [जङ्गाल] द्रुत-गामी (दे ८, ७८)।

जंत सक [यन्त्र] ? बश करना, काट्टू में करना। २ जकड़ना, बांधना (उप पृ १३१)।

जंत न [यन्त्र] ? कल, युक्ति-पूर्वक शिल्प आदि कर्म करने के लिए पदार्थ-विशेष, तिल-यन्त्र आदि (जीव ३; गा ५५४; पडि; महा; कुमा)। २ बशीकरण, रक्षा वगैरह के लिए किया जाता लेख प्रयोग (परह १, २)। ३ संयमन, नियन्त्रण (राय)। °पत्थर पुं [प्रस्तर] गोफण का पत्थर (परह १, २)।

°पिल्लणकम्म न [°पीडनकर्मन्] यन्त्र द्वारा तिल, ईख आदि पीलने या परनेका बंधा (पडि)। °पुरिस पुं [°पुरुप] यन्त्र-निर्मित पुरुष, यन्त्र से पुरुष की चेष्टा करनेवाला पुतला (आवम)। °वाडचुल्ली स्त्री [°पाटचुल्ली] इधु-रस पकाने का चूल्हा (ठा ८—पत्र ४१७)। °हर न [°गृह] वारा-गृह, पानी का फवारावाला स्थान (कुमा)।

जंत देखो जा = या।

जंतण न [यन्त्रण] ? नियन्त्रण, संयमन, काट्टू। २ रोकनेवाला, प्रतिरोधक, (से ४, ४६)।

जंतिअ पुं [यान्त्रिक] यन्त्र-कर्म करनेवाला, कल चलानेवाला (गा ५५४)।

जंतिअ वि [यन्त्रित] नियन्त्रित, जकड़ा हुआ (पउम ५३, १४५)।

जंतु पुं [जन्तु] जीव, प्राणी (उत्त ३; सण)।

जंतुग न [जन्तुक] जलाशय में होनेवाला तृण-विशेष (परह २, ३—पत्र १२३)।

जंतुय वि [जान्तुक] जन्तुक नामक तृण का (आचा २, २, ३, १४)।

जंप सक [जल्प] बोलना, कहना। जंपइ (प्राप्र)। बहू. जंपंत, जंपमाण (महा; गा १६८; सुर ४, २)। संकृ. जंपिऊण, जंपिऊणं, जंपिय (प्राह; महा)। हेकृ. जंपिउं (महा)। कृ. जंपिअव्य (गा २४२)।

जंपण न [जल्पण] उक्ति, कथन, कहना  
(श्रा १२; गउड) ।

जंपण न [दे] १ अकीर्ति, अपयश । २ मुख  
मुँह (दे ३, ५१; भवि) ।

जंपय वि [जल्पक] बोलनेवाला, भापक  
(परह १, ३) ।

जंपाण न [जम्पान] १ वाहन-विशेष, सुखा-  
सन, शिविका-विशेष (ठा ४, ३; औप; सुपा  
३६३; उप ६५६) । २ मृतक-यान, शव-यान  
(सुपा २१६) ।

जंपिच्छय वि [दे] जिसको देखे उसी को  
चाहनेवाला (दे ३, ४४; पाग्र) ।

जंपिय वि [जल्पित] कथित, उक्त (प्रासू  
१३०) ।

जंपिय देखो जंप ।

जंपिर वि [जल्पित] १ जल्पाक, वाचाट  
(दे २, ६७) । २ बोलनेवाला, भापक (हे  
२, १४५; श्रा २७; गा १६२; सुपा ४०२) ।

जंपेक्खिरमंगिर } वि [दे] जिसको देखे  
जंपेक्खिरमंगिर } उसी को याचना करने-  
वाला (पड; ३, ४४) ।

जंववई स्त्री [जाम्बवती] शोकपूर्ण की एक  
पत्नी (श्रंत १४; आत्रू १) ।

जंववंत पुं [जाम्बवत्] एक विद्याधर  
राजा (कुप्र २५६) ।

जंवाळ न [दे] १ जंवाल, सेवाल, जलमल,  
सिवार या सेवार (दे ३, ४२; पाग्र) ।

जंवाल पुंन [जम्वाळ] १ कदम, कांदो, पंक  
(पाग्र; ठा ३, ३) । २ जरारु, गर्भ-वेष्टन चर्म  
(सुप्र १, ७) ।

जंवीरिय (अग) न [जम्वीर] नीवू या नीवू,  
फल-विशेष (अण) ।

जंयु पुं [जम्बु] १ जम्बुक, सियार; 'उद्धमु-  
हृदयजंयुगण' (पउम १०५, ५७) । २ एक  
प्रसिद्ध जैन मुनि, सुवर्म-स्वामी के शिष्य,  
श्रान्तिम केवली (कप्प; वसु; विपा १, १) । ३  
न. जम्बू वृक्ष का फल, जामुन (श्रा ३६) ।

जंयु पुंन [जम्बु] जम्बू वृक्ष का फल, जामुन;  
'ति विविति जंयु मक्खेमा' (संवाच ४७) ।

जंयु° देखो जंयू (कप्प; कुमा; इक; पउम ५६,  
२२; से १३, ८६) ।

जंयुअ पुं [दे] १ वेतस वृक्ष, वेंत । २ पश्चिम  
दिकपाल (दे ३, ५२) ।

जंयुअ } पुं [जम्बुक] १ सियार, गीदड़  
जंयुग } (प्रासू १७१; उप ७६८ टी; पउम  
१०५, ६४) । २ न. जम्बूवृक्ष का फल,  
जामुन (सुपा २२६) ।

जंयुल पुं [दे] १ बानौर वृक्ष, वेंत । २ न.  
मद्यभाजन, सुरापान (दे ३, ४१) ।

जंयुल वि [दे] जल्पाक, वाचाट, बकवादी  
(पाग्र) ।

जंयुवई देखो जंयवई (श्रंत; पडि) ।

जंयू स्त्री [जम्बू] १ वृक्ष-विशेष, जामुन  
का पेड़ (राया १, १; औप) । २ जंयू वृक्ष  
के आकार का एक रत्नमय शश्वत पदार्य,  
सुदर्शना, जिसके कारण यह द्वीप जंयूद्वीप  
कहलाता है (जं १) । ३ पुं. एक सुप्रसिद्ध  
जैन मुनि, सुवर्म-स्वामी का मुख्य शिष्य (जं  
१) । °दीव पुं [°द्वीप] भूखण्ड विशेष,  
सब द्वीप और समुद्रों के बीच का द्वीप, जिसमें  
वह भारत आदि क्षेत्र वर्तमान है (जं १;  
इक) । °दीवग वि [°द्वीपक] जम्बूद्वीप-  
संबन्धी, जम्बूद्वीप में उत्पन्न (ठा ४, २; ६) ।  
°दीवपण्णत्ति स्त्री [°द्वीपप्रज्ञप्ति] जैन  
आगम-ग्रन्थ-विशेष, जिसमें जंयूद्वीप का वर्णन  
है (जं १) । °पीठ, °पेठ न [°पीठ]  
सुदर्शना-जम्बू का अधिष्ठान-प्रदेश (जं ४;  
इक) । °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (इक) ।  
°मालि पुं [°मालिन्] रावण का एक पुत्र,  
रावण का एक सुभट (पउम ५६, २२; से  
१३, ८६) । °मेघपुर न [°मेघपुर] विद्या-  
धर-नगर-विशेष (इक) । °संड पुं [°पण्ड]  
ग्राम-विशेष (आवम) । °सामि पुं [°त्वामिन्]  
सुप्रसिद्ध जैन मुनि-विशेष (आवम) ।

जंयूअ पुं [जम्बूक] सियार, गीदड़ (श्राघ  
८४ भा) ।  
जंयूणय न [जाम्बूनद] १ सुवर्ण, सोना  
(सम ६५; पउम ५, १२६) । २ पुं. स्वनाम-  
प्रसिद्ध एक राजा (पउम ५८, ६८) ।  
जंयूल्य पुंन [जम्बूलक] उदक-भाजन-विशेष  
(उवा) ।  
जंभ पुं [दे] तुप, भूसा, धान्य वगैरह का  
छिलका (दे ३, ४०) ।

जंभंत देखो जंभा = जम्म् ।

जंभग वि [जम्भक] १ जैमाई लेनेवाला ।  
२ पुं. व्यन्तर-देवों की एक जाति (कप्प,  
सुपा ४०) ।

जंभगंभण } वि [दे] स्वच्छन्द-भाषी, जो  
जंभगंभण } मरजी में आवे वह बोलने-  
जंभणय } वाला (पड; दे ३, ४४) ।

जंभणी स्त्री [जम्भणी] तन्त्र-प्रसिद्ध विद्या-  
विशेष (सुप्र २, २; पउम ७, १४४) ।

जंभय देखो जंभग (राया १, १; श्रंत; भग  
१४, ८) ।

जंभल पुं [दे] जड़, सुस्त, मन्द (दे ३, ४१) ।

जंभा स्त्री [जम्भा] जैमाई, जम्भण (विपा  
१, ) ।

जंभा स्त्री [जम्भा] एक देवी का नाम  
(सिरि २०३) ।

जंभा } अक [जम्भ] जैमाई लेना ।  
जंभाअ } जंभाइ, जंभाअइ (हे ४, १५७;  
२४०; प्राप्र; पड) । वृह.जंभंत, जंभाअंत  
(गा ५४६; से ७, ६५; कप्प) ।

जंभाइअ न [जम्भिभत] जैमाई, जम्भा  
(पडि) ।

जंभिय न [जम्भिभत] १ जैमाई, जम्भा । २  
पुं. ग्राम-विशेष, जहाँ भगवान् महावीर को  
केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था; यह गाँव पारस-  
नाथ पहाड़ के पास की ऋजुवालिका नदी के  
किनारे पर था (कप्प) ।

जकख पुं [यक्ष] १ व्यन्तर देवों की एक  
जाति (परह १, ४; औप) । २ घनेश, कुवेर,  
यसाविपति (प्राप्र) । ३ एक विद्याधर-राजा,  
जो रावण का मौसैरा भाई था (पउम ८,  
१०२) । ४ द्वीप-विशेष । ५ समुद्र-विशेष  
(चंद १६) । ६ ध्यान, कुत्ता; 'अह प्रायविरा-  
हणया उम्बुल्लिहणे पवयणम्मि' (श्राघ १६३  
भा) । °कहम पुं [°कहम्म] १ केसर, अगार,  
चन्दन, कपूर और कस्तूरी का समभाग मिश्रण  
(भवि) । २ द्वीप-विशेष । ३ समुद्र-विशेष  
(चंद २०) । °गह पुं [°ग्रह] यसावेश,  
यज्ञकृत उपद्रव (जीव ३; जं २) । °णायग  
पुं [°नायक] यसाँ का अधिपति, कुवेर  
(अण) । °दित्त न [°दीप्त] देखो नीचे  
°दित्तय (पव २६) । °दिन्ना स्त्री [°दत्ता]  
महर्षि स्थूलभद्र की वहिन, एक जैन साध्वी

(पडि) । °मह पुं [°मह] यज्ञद्वीप का अविपति देव-विशेष (चंद्र २०) । °मंडलप-विभक्ति स्त्री [°मंडलप्रविभक्ति] एक तरह का नाट्य (राय) । °मह पुं [°मह] यज्ञ के लिए किया जाता महोत्सव (आचा २, १, २) । °महाभद्र पुं [°महभद्र] यज्ञ द्वीप का अविपति देव (चंद्र २०) । °महावर पुं [°महावर] यज्ञ समुद्र का अविपति देव-विशेष (चंद्र २०) । °राय पुं [°राज] ? यज्ञों का राजा, कुवेर । २ प्रवान यज्ञ (सुपा ४६२) । ३ एक विद्यावर राजा (पठम ८, १२४) । °वर पुं [°वर] यज्ञ-समुद्र का अविपति देव-विशेष (चंद्र २०) । °इंद्र वि [°विष्ट] यज्ञ का आवेशवाला, यज्ञाविधित (जा ५, १; वव २) । °इन्द्रिय, °लित्तिय न [°इन्द्रिय] ? कमी-कमी किस्ती दिशा में विजली के समान जो प्रकाश होता है वह, आकाश में व्यन्तर-कृत अग्नि-दोषन (भग ३, ६; वव ७) । २ आकाश में दीप्तता अग्नि-युक्त पिशाच (जीव ३) । °वेस पुं [°वेश] यज्ञ-कृत आवेश, यज्ञ का मनुष्य-शरीर में प्रवेश (जा २, १) । °इहिव पुं [°धिप] ? वैद्यमण, कुवेर, यज्ञ राज । २ एक विद्या-घर राजा (पठम ८, ११३) । °इहिवइ पुं [°धिपति] देवों पूर्वोक्त अर्थ (पाय; पठम ८, ११६) ।

जक्खरत्ति स्त्री [दे. यक्षरात्ति] दीपालिका, दीवान्नी, कार्तिक वदि अनास का पर्व (दे ३, ४३) ।

जक्खला स्त्री [यक्षा] एक प्रसिद्ध जैन साध्वी, जो महर्षि स्थूलभद्र की वहिन थी (पडि) ।

जदियेदं पुं [यज्ञेन्द्र] ? यज्ञों की स्वामी, यज्ञों का राजा (जा ४, १) । २ नगवान् अरनाय का शासनाधिष्ठायक देव (पव २६; संति ८) ।

जदियेणी स्त्री [यक्षिणी] ? यज्ञ-योनि की, देवियों की एक जाति (आचम) । २ नगवान् श्रोत्रेनिनाय की प्रथम शिष्या (सम १५२) ।

जदियेणी स्त्री [यक्षिणी] देखो जक्खला (मंगल २३) ।

जक्खली स्त्री [आर्क्षी] लिपि-विशेष (विसे ४६४ टी) ।

जक्खुत्तम पुं [यक्षोत्तम] यज्ञ-देवों की एक अवान्तर जाति (पण १) ।

जक्खेस पुं [यक्षेश] ? यज्ञों का स्वामी । २ नगवान् अन्नितन्दन का शासन-यज्ञ (संति ७) ।

जग न [यज्जत्] पेट की दक्षिण-ग्रन्थि (परह १, १) ।

जग पुं [दे] जन्तु, जीव, प्राणी; 'पुहो जगा परिसंखाय निक्खू' (सूत्र १, ७, २०) ।

जग पुंन [जगन्] प्राणी, जीव; 'पुडविजीवे हिविजा जे अ तन्निस्सिवा जगे' (दस ५, १, ६८; सूत्र १, ७, २०; १, ११, ३३) ।

जग न [जगन्] जग, संसार, दुनियाँ (सं २४६; नुर २, १३१) । °गुरु पुं [°गुरु] ? जगत् में सर्व-श्रेष्ठ पुरुष । २ जगत् का पूज्य । ३ जिन-देव, तीर्थंकर (सं २१; पंचा ७) । °जीवण वि [°जीवन] ? जगत् को जीलानेवाला । २ पुं. जिन-देव (राज) ।

°णाह पुं [°नाथ] जगत् का पालक, परमेश्वर, जिन-देव (एदि) । °पियामह पुं [°पिता-मह] ? ब्रह्मा, विद्यावा । २ जिनदेव (एदि) । °पगास वि [°प्रकाश] जगत् का प्रकाश करनेवाला, जगत्प्रकाशक (पठम २२, ४७) । °पहाग न [°प्रधान] जगत् में श्रेष्ठ (गडड) ।

जगई स्त्री [जगती] ? प्राकार, किला, दुर्ग (सम १३; चैत्य ६१) । २ पृथिवी (उत्त १) ।

जगईपञ्चय पुं [जगतीपर्वत] पर्वत-विशेष (राय ७५) ।

जगजग अक [चक्रास्] चमकना, दीपना । वहु. जगजगंत, जगजगंत (पठम ७७, २३; १४, १३४) ।

जगड सक [दे] ? नगइना, नगइना करना, कलह करना । २ कदर्यन करना, पीड़ना । ३ उठाना, जागृत करना । वहु. जगडंत (मवि) । कवहु. जगडिजंत (पठम ८२, ६; राज) ।

जगडण न [दे] नोचि देखो (उव) ।

जगडण वि [दे] ? नगइना करनेवाला । २ कदर्यना करनेवाला (यमवि ८६; कुप्र ४२६) ।

जगडणा स्त्री [दे] ? नगइना, कलह । २

कदर्यन, पीड़ना; 'सिए चिय वम्महणायगस्स जगजगडणापसत्तस्स' (उप ५३० टी) ।

जगडिअ वि [दे] विद्रावित, कदर्यित (दे ३, ४४; सार्व ६७; उव) ।

जगडिअ वि [दे] लड़ाया हुआ (वमंवि ३१) ।

जगर पुं [जगर] संताह, कवच, वर्म (दे ३, ४१) ।

जगल न [दे] ? पङ्कजाली मंदिरा, मंदिरा का नीचला भाग (दे ३, ४१) । २ ईज की मंदिरा का नीचला भाग (दे ३, ४१; पाय) ।

जगार पुं [दे] राज, यवागू (पव ४) ।

जगार पुं [जकार] 'जे' अक्षर, 'ज' वर्ण (निव्व १) ।

जगार पुं [यत्कार] 'यत्' शब्द; 'जगारहिट्ठाणं तगारणं निहेसो कीरइ' (निव्व ?) ।

जगारी स्त्री [जगारी] अन्न-विशेष, एक प्रकार का सुद्ध अन्न; 'असणं ओवणसत्तुगमुगज-गारोइ' (पंचा ५) ।

जगुत्तम वि [जगदुत्तम] जगत्-श्रेष्ठ, जगत् में प्रवान (परह २, ४) ।

जग्ग अक [जागू] ? जागना, नींद से उठना । २ सचेत होना, सावधान होना । जग्गइ, जग्गि (हे ४, ८०; पड; प्रातू ६८) । वहु. जग्गंत (सुपा १८५) । प्रयो. जग्गावइ (पि ५५६) ।

जग्गण न [जागरण] जागना, निद्रा-त्याग (ओष १०६) ।

जग्गाविअ वि [जागरित] जगाया हुआ, नींद से उठया हुआ (सुपा ३३१) ।

जग्गाह पुं [यद्ग्रह] जो प्राप्त हो उठे ग्रहण करने की राजज्ञान, 'एणा जग्गहो घोसिथो' (आचम) ।

जग्गाविअ देखो जग्गाविअ (सं १०, ५६) ।

जग्गाह देखो जग्गाह (आक) ।

जग्गिअ वि [जागृत] जगा हुआ, त्यक्त-निद्र (गा ३८५; कुमा; सुपा ५६३) ।

जग्गिर वि [जागरित्] ? जागनेवाला । २ सावचेत रहनेवाला (सुपा २१८) ।

जघण न [जघन] कमर के नीचे का भाग, कटस्थल (कप्प; औप) ।

जञ्च पुं [दे] पुरुष, मरद, आदमी (दे ३, ४०) ।

जञ्च वि [जात्य] १ उत्तम जातवाला, कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम, सुन्दर (शाया १, १; आ १२; सुपा ७७; कप्प) । २ स्वाभाविक, अकृत्रिम (तंदु) । ३ सजातीय, विजाति-मिश्रण से रहित, शुद्ध (जीव ३) ।

जञ्चंजण न [जात्याञ्जन] १ श्रेष्ठ अञ्जन, सुन्दर अञ्जन (शाया १, १) । २ मदित अञ्जन, तैल वगैरह से मदित अञ्जन (कप्प) ।

जञ्चदण न [दे] १ अगह, सुगन्धि द्रव्य-विशेष, जो घुष के काम में आता है । २ कुंकुम, केसर (दे ३, ५२) ।

जञ्चंध वि [जात्यन्ध] जन्म से अन्धा, जन्मांध (सुपा ३६५) ।

जञ्चणिय } वि [जात्यन्वित] सुकुल में  
जञ्चनिय } उत्पन्न, श्रेष्ठ जाति का (सुप्र १, १०; वृह ३) ।

जञ्चास पुं [जात्यश्च, जात्याश्च] उत्तम जाति का घोड़ा (पउम ५४, २६) ।

जञ्चिय (अप) वि [जातीय] समान जाति का (सण) ।

जञ्चिर न [यञ्चिर] जहाँ तक, जितने समय तक (वव ७) ।

जञ्छ सक [यम्] १ उपरम करना, विराम करना । २ देना, दान करना । जञ्छइ (हे ४, २१५; कुमा) ।

जञ्छ पुं [यच्चमन्] रोग-विशेष, यक्ष्मा, क्षय-रोग (प्राक् २२) ।

जञ्छंद वि [दे] स्वच्छन्द, स्वैर (दे ३, ४३, पड्) ।

जञ् देखो जय = यज् । वक्क. जजमाण (नाट—शकु ७२) ।

जजु देखो जज = यजुष् (शाया १, ५; भग)

जज्ज वि [जय्य] जो जीता जा सके वह, जीतने की शक्य (हे २, २४) ।

जज्जर वि [जर्जर] जीर्ण, सच्छिद्र, खोखला, जांजर, भाँभरा या भाँभर (गा १०१; सुर ३, १३६) ।

जज्जर सक [जर्जरय्] जीर्ण करना, खोखला करना । कक्क. जज्जरिज्जंत, जज्जरिज्जमाण (नाट—चैत ३३; सुपा ६४) ।

जज्जरिय वि [जर्जरित] जीर्ण किया गया, खोखला किया हुआ, पुराना (ठा ४, ४; सुर ३, १६५; कस) ।

जज्जिग पुं [जय्यिक] एक जैन आचार्य का नाम (ती १५) ।

जज्जिय } न [यावज्जीव] जीवन-यन्त;  
जज्जीव } जिन्दगी भर; 'जज्जीव आहगरणं (पिड ५०६; ५१२) ।

जट्ट पुं [जर्त] १ देश-विशेष (भव) । २ उस देश का निवासी (हे २, ३०) ।

जट्ट वि [इट्ट] यजन किया हुआ, याग किया हुआ (स ५५) ।

जट्ट न [इट्ट] यजन, याग, यज्ञ (उत्त १२, ४०; २५, ३०) ।

जट्टि वी [याट्टि] लकड़ी, 'जट्टियुट्टिलउडपहा-रेंहि' (महा; प्राप्र) ।

जड वि [जड] १ अचेतन, जीव-रहित पदार्थ । २ मूर्ख, आलसी, विवेक-शून्य (पाप्र; प्रासू ७१) । ३ शिशिर, जाड़े से ठंडा होकर चलने की अशक्त (पाप्र) ।

जड देखो जड (पड्) ।

जडं } वी [जटा] सटें हुए बाल, मिले हुए  
जडा } बाल (हेका २५७; सुपा २५१) ।

°धर वि [°धर] १ जटा को धारण करने-वाला । २ पुं. जटाधारी तापस, संन्यासी (पउम ३६, ७५) । °धारि पुं [°धारिन्] देखो पूर्वोक्त अर्थ (पउम ३३, १) ।

जडहारि देखो जड-धारि (कुप्र २६३) ।

जडाउ } पुं [जटायु] स्वनाम-प्रसिद्ध गृद्ध  
जडाउण } पक्षि-विशेष (पउम ४४, ५५; ४०) ।

जडागि पुं [जटाकिन्] ऊपर देखो (पउम ४१, ६५) ।

जडाल वि [जटावत्] जटा-युक्त, जटाधारी (हे २, १४६) ।

जडासुर पुं [जटासुर] असुर-विशेष (वेणी १७७) ।

जडि वि [जटिन्] १ जटावाला, जटायुक्त । २ पुं. जटाधारी तापस (श्रीप; भत्त १००) ।

जडिअ वि [जटिक] देखो जडि (कुप्र २६३) ।

जडिअ वि [जटित] पिहित, ढका हुआ (सिरि ५१६) ।

जडिअ वि [दे. जटित] जड़ित जड़ा हुआ, खचित, संलग्न (दे ३, ४१; महा; पाप्र) ।

जडिम पुं वी [जडिमन्] जड़ता, जड़पन, जाड्य (सुपा ६) ।

जडियाइला } पुं [दे. जटिकादिलक] ग्रह-  
जडियाइलय } विशेष, ग्राहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३; चन्द २०) ।

जडिल वि [जटिल] १ जटावाला, जटा-युक्त (उवा; कुमा २, ३५) । २ व्याप्त, खचित; 'उल्लसियवहलजालोलिजडिले जलणे पवेसो वा' (सुपा ४६५) । ३ पुं. सिंह, केसरी । ४ जटाधारी तापस (हे १, १६४; भग १५; पव ६४) ।

जडिलय पुं [दे. जटिलक] राहु, ग्रह-विशेष (सुज २०) ।

जडिलिय } वि [जटिलित] जटिल किया  
जडिलिले } हुआ, जटा-युक्त किया हुआ (सुपा १-२५; २६६) ।

जडिले वि [जटिन्] जटावाला, जटाधारी (चंड) ।

जगुल देखो जडिल (भग १५—पत्र ६७०) ।

जडु वि [दे] अशक्त, असमर्थ (पव १०७) ।

जडु न [जाड्य] जड़ता, जड़पन (उप ३२० टी; सार्व १३०) ।

जडु देखो जड (पव १०७; पंचभा) ।

जडु पुं [दे] हाथी, हस्ती (श्रीप २३८; वृह १) ।

जडु वी [दे] जाड़ा, शीत (सुर १३, २१५; पिग) ।

जड वि [त्यक्त] परित्यक्त, मुक्त, वर्जित (हे ४, २५८; श्रीप ६०); 'जडवि न सम्मतजडो' सत्त ७१ टी) ।

जडर } न [जठर] पेट, उदर (हे १, २५४;  
जडल } प्राप्र; पड्) ।

जण सक [जनय्] उत्पन्न करना, पैदा करना । जणैइ, जणंति (प्रासू १५; १०८; महा) । जणंति (आचा) । वक्क. जणंत, जणेमाण (सुर १३, २१; द्र ३६; उव) ।

जण पुं [जन] १ मनुष्य, मानव, आदमी, लोग, व्यक्ति (श्रीप; आचा; कुमा; प्रासू ६;

६५; स्वप्न १६)। २ देहाती मनुष्य (सूत्र १, १, २)। ३ समुदाय, वर्ग, लोक (कुमा; पंचव ४)। ४ वि. उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला; 'जिण मुहम्मपणणं' (विते ६६०)।  
 °जत्ता वी [°यात्रा] जन-समागम, जन-संगति; 'जणजत्तारहियाणं होइ जइत्तं जइण स्या' (दंन ४)। °ट्टाण न [°स्थान] १ दण्ड-कारण्य, दलिया का एक जंगल। २ नगर-विशेष, नासिक (ती २८)। °वइ पुं [°पति] लोगों का मुखिया (श्रीप)। °वय पुं [°व्रज] मनुष्य-समूह (पउम ४, ५)। °वाय पुं, [°वाद] १ जन-श्रुति, किंवदन्ती; उड़ती खबर (सुपा ३००)। २ मनुष्यों की आपस में चर्चा (श्रीप)। ३ लोकापवाद, लोक में निन्दा; 'जणवायनणं' (अव १)। °स्सुइ वी [°श्रुति] किंवदन्ती। °विवाय पुं [°पवाद] लोक में निन्दा (गा ४८४)।  
 जणइ वी [जत्तिका] उत्पादिका, उत्पन्न करनेवाली (कुमा)।

जणइउ पुं [जनयित्] १ जनक, पिता जणइत्तु (राज)। २ वि. उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला (ठा ४, ४)।

जणउत्त पुं [दे] ग्राम का प्रधान पुत्र, गाँव का मुखिया (दे ३, ५२; पड)। २ विट, भाएड, नाइ, विदुपक (दे ३, ५२)।

जणंगम पुं [जनङ्गम] चाण्डाल, 'रायणो हूँति रंका य वंभणा य जणंगमा' (उप १०३१ टी; पात्र)।

जणग देखो जगय (भग; उप पृ २१६; सुर २, १३७)।

जणण न [जनन] १ जन्म देना, उत्पन्न करना, पैदा करना (सुपा ५६७; सुर ३, ६; द्र ५७)। २ वि. उत्पादक, जनक (उर ६, ६; कुमा; भवि); 'जणमणपसायजणणा' (वसु)।

जणणि वी [जननि, °नी] १ माता, जणणी अन्ना (सुर ३, २५; महा; पात्र)। २ उत्पन्न करनेवाली वी, उत्पादिका (कुमा)।

जणण पुं [जनादन] योद्धण, विष्णु (उप ६४८ टी; पिंग)।

जणप्पवाद पुं [जनप्रवाद] जन-रव, लोकोक्ति, अफवाह (मोह ४३)।

जणमेअअ पुं [जन्मेजय] स्वनाम-प्रसिद्ध नृप-विशेष (चाह १२)।

जणमेजय देखो जणमेअअ (धर्मवि ८१)।

जणय वि [जनक] १ उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला; 'दिट्ठिवियं पितुण्णं सर्वं सव्वत्स भयजणयं' (प्रासू १६)। २ पुं. पिता, बाप (पात्र; सुर ३, २५; प्रासू ७७)। ३ देखो जण = जन (सूत्र १, ६)। ४ मिथिला का एक राजा, राजा जनक, सीता का पिता (पउम २१, ३३)। ५ पुं. व. माता-पिता, माँ-बाप; 'जं किपि कोई साहइ, तज्जणयाइ कुणंति तं सर्वं' (सुपा ३५६; ५६८)।

°तणआ वी [°तनया] राजा जनक की पुत्री, राजा रामचन्द्र की पत्नी, सीता, जानकी (से १, ३७)। °दुहिया, °धूआ [°दुहितृ] वही अर्थ (पउम २३, ११; ४८, ४)।

°नदण पुं [°नन्दन] राजा जनक का पुत्र, भामरुडल (पउम ६५, २५)। °नंदणी वी [°नन्दनी] सीता, राम-पत्नी, जानकी (पउम ६४, ४६)। °गंदिणी वी [°नन्दिनी] वही अर्थ (पउम ४५, १८)। °निवतणया वी [°नृपतनया] राजा जनक की पुत्री, सीता (पउम ४८, ६०)।

°पुत्ती वी [°पुत्री] वही अर्थ (रयण ७८)। °सुअ पुं [°सुत] जनक राजा का पुत्र, भामरुडल (पउम ६५, २८)। °सुआ वी [°सुता] जानकी, सीता (पउम ३७, ६२; से २, ३८; १०, ३)।

जणयंगया वी [जनकाङ्गया] जानकी, सीता, राजा रामचन्द्र की पत्नी (पउम ४१, ७८)।

जणवय पुं [जनपद] १ देश, राष्ट्र, जन-स्थान, लोकालय (श्रीप)। २ देश-निवासी जन-समूह, प्रजा (पएह १, ३; आचा)।

जणवय वि [जानपद] देश में उत्पन्न, देश का निवासी (आचा)।

जणस्सुइ वी [जनश्रुति] किंवदन्ती, अफवाह, कहावत (धर्मवि ११२)।

जणि (अप) अ [इव] तरह, माफिक; जैसा (हे ४, ४४४; पड)।

जणिअ वि [जनिअ] उत्पादित, उत्पन्न किया हुआ (पात्र)।

जणी वी [जनी] वी, नारो, महिला (राया २—पत्र २५३; पउम १५, ७३)।

जणु देखो जणि (हे ४, ४४४; कुमा; पड)। जणुकुटिआ वी [जनोत्कलिआ] मनुष्यों का छोटा समूह (भग)।

जणुम्मि वी [जनोमि] तरंग की तरह मनुष्यों की नीड़ (भग)।

जणेमाग देखो जण = जनपु।

जणेर (अप) वि [जनक] १ उत्पादक, पैदा करनेवाला। २ पुं. पिता, बाप (भवि)।

जणेरि (अप) वी [जननी] माता, माँ (भवि)।

जणण पुं [यज्ञ] १ यज्ञ, याग, मख, ऋतु (प्राप्र गा २२७)। २ देव-पूजा। ३ ब्राह्म (जोव ३)। °इ, °जाइ वि [°याजिन्] यज्ञ करनेवाला (श्रीप; निवृ १)। °इज्ज वि [°जीव] १ यज्ञ-सम्बन्धी, यज्ञ का। २ न. 'उत्तराव्ययन' सूत्र का एक प्रकरण (उत्त २५)। °ट्टाण न [°स्थान] १ यज्ञ का स्थान। २ नगर-विशेष, नासिक (ती २०)।

°मुह न [°मुख] यज्ञ का उपाय (उत्त २५)। °वाड पुं [°वाट] यज्ञ-स्थान (गा २२७)।

°सेट्ट पुं [°श्रेष्ठ] श्रेष्ठ यज्ञ, उत्तम याग (उत्त १२)।

जणण देखो जन्म = जन्म (धर्मसं १००)।

जणणय देखो जणय (प्राप्र)।

जणणयत्ता वी [दे. यज्ञयात्रा] वरात, विवाह की यात्रा, वर के सायियों का गमन (उप ६५४)।

जणणसेणी वी [याज्ञसेनी] द्रौपदी, पाण्डव-पत्नी (वेणो ३७)।

जणणहर पुं [दे] नर-राजस, दुष्ट-मनुष्य (पड)।

जणणय पुं [याज्ञिक] याजक, यज्ञ करानेवाला (आवम)।

जणणोवईय } न [यज्ञोपवीत] यज्ञ-चूत्र,  
 जणणोववीय } जनेऊ (उत्त २; आवम)।

जणणोहण पुं [दे] राजस, पिशाच (दे ३, ४३)।

जणह न [दे] १ छोटी स्याली। २ वि. कृष्ण, काले रंग का (दे ३, ५१)।

जणहई वी [जाह्वी] गंगा नदी, भागीरथी (अचु ६)।

जण्हली वी [दे] नीवी, नारा, इजाखन्द  
(दि ३, ४०) ।

जण्हवी वी [जाह्वी] १ सगर चक्रवर्ती  
की एक पत्नी, भगीरथ की जननी (पउम  
५, २०१) । २ गङ्गा-नदी, भागीरथी (पउम  
४१, ५१; कुमा) ।

जण्हु पुं [जहु] भरत-वंशीय एक राजा  
(प्राप्र; हे २, ७५) । सुआ वी [सुता]  
गङ्गा-नदी, भागीरथी (पात्र) ।

जण्हुआ वी [दे] जानु, घुटना (पात्र) ।  
जण्हुकन्ना वी [जहुकन्या] गंगा-नदी  
(कुप्र ६६) ।

जत्त-देखो जय = यत् । भवि. जत्तिहामि  
(निर १, १) ।

जत्त पुं [यत्त] उद्योग, उद्यम, चेष्टा (उप  
पृ ५८) ।

जत्ता वी [यात्रा] १ देशान्तर-गमन, देशाटन  
(ठा ४, १; श्रौप) । २ गमन, गति: 'जत्तत्ति  
होइ गमण' (पंचभा; श्रौप) । ३ देव-पूजा के  
निमित्त किया जाता उत्सव-विशेष, अष्टाहिका,  
रथ-यात्रा आदि: 'हुं नायं पारुद्धा सिद्धाययणेषु  
जत्ताथो' (सुर ३, ३८) । ४ तीर्थ-गमन,  
तीर्थ-भ्रमण (धर्म २) । ५ शुभ-प्रवृत्ति (भग  
१८, १०) ।

जत्ता वी [यात्रा] संयम-निर्वाह (उत्त  
१६, ८) ।

जत्ति वी [दे] १ चिन्ता । २ सेवा, सुधूपा:  
'अजाणणाए तज्जत्तो न कया तन्मि केणवि'  
(श्रा २८) ।

जत्तिअ देखो यत्तिअ (उवा २० टि) ।

जत्तिय वि [यावत्] जितना (प्रासू १५६;  
भावम) ।

जत्तो देखो जओ (हे २, १६०) ।

जत्थ अ [यत्र] जहाँ, जिसमें (हे २, १६१;  
प्रासू ७६) ।

जदि देखो जइ = यदि (निचू २) ।

जदिच्छा देखो जइच्छा (बृह ३; मा १२) ।

जट्टु देखो जउ = यडु (कुमा; ठा ८) ।

जइर पुंन [दे] वस्त्र-विशेष (सम्मत्त २१८;  
२१६) ।

जधा देखो जहा (ठा २, ३; ३; १) ।

जन्न देखो जण्ण (पएह १, २, ४; पउम  
११, ४६) ।

जन्न वि [जन्य] १ जन-हित, लोक-हितकर  
(सुअ २, ६, २) । २ उत्पन्न होने योग्य  
(धर्मसं २८०) ।

जन्नत्ता वी [दे] वरात, गुजराती में 'जान'  
जन्ना (सुपा ३६६; उप ७६८ टी) ।

जन्नसेणी देखो जण्णसेणी (पाथं ४) ।

जन्नु देखो जाणु (पउम ६८, १०) ।

जन्नोवइय देखो जण्णोवइय (सुख २, १३) ।

जन्नोवइय देखो जण्णोवइय (साया १,  
१६—पत्र २१३) ।

जन्हवी देखो जण्हवी (ठा ६, ६) ।

जप देखो जव = जप् (पड्) ।

जपिर वि [जपित्] जाप करतेवाला (पड्) ।  
जप्प देखो जंप । जप्पइ (पड्) । जप्पति  
(पि २६६) ।

जप्प पुं [जल्प] १ उक्ति, कथन । २ छल  
का उपालम्भ रूप भाषण (राज) ।

जप्प वि [याप्य] गमन कराने योग्य ।  
जाण न [यान] वाहन-विशेष, शिविका  
(दे ६, १२२) ।

जप्पभिइ १ अ [यत्प्रभृति] जब से, जहाँ से  
जप्पभिइ १ लेकर (साया १, १; कप्प) ।

जप्पिअ वि [जल्पित] १ उक्त, कथित  
(प्राप) । २ न. उक्ति, वचन (अचु २) ।

जम सक [यम्य] १ कावू में रखना,  
नियन्त्रण करना । २ जमाना, स्थिर करना ।  
जमेइ (से १०, ७०) । संक्र. जमइत्ता  
(श्रौप) ।

जम पुं [यम] १ अहिंसादि पांच महाव्रत,  
साधु का व्रत (साया १, ५; ठा २, ३) ।

२ दक्षिण दिशा का एक लोकपाल, देव-  
विशेष, जम-देवता, जमराज (पएह १, १;  
पात्र; हे १, २४५) । ३ भरणी नक्षत्र का  
अधिपति देव (सुज्ज १०) । ४ किष्किन्वा  
नगरी का एक राजा (पउम ७, ४६) । ५

तापस-विशेष (भावम) । ६ मृत्यु, मौत (श्राव  
४; महा) । ७ संयमन, नियन्त्रण (भावम) ।

काइय पुं [कायिक] असुर-विशेष, परमा-  
धार्मिक देव, जो नारकी के जीवों को दुःख  
देते हैं (पएह १, १) । घोस पुं [घोष]

देखो घोष (पएह १, १) । घोस पुं [घोष]

ऐरवत वर्ष के एक भावी जिन-देव (पत्र ७) ।  
पुरी वी [पुरी] जम की नगरी, मौत का  
स्थान; 'को जमपुरीसमाणे समसारे एव-

मुल्लवइ?' (सुपा ४६२) । पप भ पुं [प्रभ]  
यमदेव का उत्पात-पर्वत, पर्वत-विशेष (ठा  
१०) । भड पुं [भट] यमराज का सुभट  
(महा) । मंदिर न [मन्दिर] यमराज का  
घर, मृत्यु-स्थान (महा) । लिय न [लिय]

पूर्वोक्त ही अर्थ (पउम ४५, १०) ।  
जमग पुं [यमक] १ पक्षि-विशेष । देव-  
विशेष (जीव ३) । ३ पर्वत-विशेष (जीव ३;  
सम ११४; इक) । ४ द्रव-विशेष, दह, भीज  
(जीव ३; इक) । देखो जमय ।

जमगं } अ [दे] एक साथ, एक ही  
जमगसमगं } समय में, युगपत् (धम्म ११  
टी; साया १, ४; श्रौप; विपा १, १) ।

जमणिया वी [जमनिका] जैन साधु का  
उपकरण-विशेष (राज) ।

जमदग्गि पुं [जमदग्नि] तापस-विशेष, इस  
नाम का एक संन्यासी, परशुराम का पिता  
(पि २३७) ।

जमदग्गिजडा वी [यमदग्निजटा] गन्ध-  
द्रव्य-विशेष, सुगन्धवाला (उत्तनि ३) ।

जमय देखो जमग ५ न. अलंकार-शास्त्र में  
प्रसिद्ध अनुप्रास-विशेष । ६ छन्द-विशेष (पिग) ।

जमल न [यमल] १ जोड़ा, युग्म, युगल  
(साया १, १; हे २, १७३; से ५, ५६) ।

२ समान श्रेणि में स्थित, तुल्य पंक्तिवाला  
(राय) । ३ सहवर्ती, सहचारी (भग १५) ।  
४ समान, तुल्य (राय; श्रौप) । उजुणभंजग  
पुं [जुनभञ्जक] श्रीकृष्ण वासुदेव (पएह  
१, ४) । पद, पय न [पद] १ प्राय-  
चित्त-विशेष (निचू १) । २ आठ अंकों की  
संख्या (पएण १२) । पाणि पुं [पाणि]

मुष्टि, मुट्टी (भग १६, ३) ।  
जमलिय वि [यमलित्त] १ युग्म रूप से  
स्थित (राय) । २ सम-श्रेणि रूप से अवस्थित  
(साया १, १, श्रौप) ।

जमलोइय वि [यमलौकिक] १ यमलोक-  
सम्बन्धी, यमलोक से सम्बन्ध रखनेवाला ।  
२ परमाधार्मिक देव, असुरों की एक जाति  
(सुअ १, १२) ।

जमा स्त्री [यामी] दक्षिण दिशा (ठा १०—  
पत्र ४७८) ।

जमालि पुं [जमालि] स्वनाम-ख्यात एक  
राज-कुमार, जो भगवान् महावीर का जामाता  
था; जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा  
ली थी और पीछे से अपना ब्रह्मण्य  
निकाला था (एगाया १, ८; ठा ७) ।

जमावण न [यमन] १ नियन्त्रण करना ।  
२ विषम वस्तु को सम करना ( निचू १) ।

जमिअ वि [यमित] नियन्त्रित, संयमित,  
कातू में किया हुआ (से ११, ४१; सुपा ३) ।

जमुणा देखो जैउणा (पि १७६; २५१) ।

जमू स्त्री [जमू] ईशानेन्द्र की एक अग्र-  
महिषी का नाम (इक) ।

जम्भ अक [जम्भ] उल्लस्य होना । जम्भइ (हे  
४, १३६; पड्) । वक्र. जम्भंत (कुमा);  
'जम्भंतीए सोगो, वड्डंतीए य वड्डए चित्ता'  
(सूक्त ६८) ।

जम्भ सक [जम्भ] खाना, भक्षण करना ।  
जम्भइ (पड्) ।

जम्भ पुंन [जम्भन्] जन्म, उत्पत्ति (ठा ६;  
महा; प्रासू ६०) ।

जम्भण न [जम्भन्] जन्म, उत्पत्ति, उत्पाद  
(हे २, १७४; एगाया १, १; नुर १, ६) ।

जम्भा स्त्री [याम्या] दक्षिण दिशा (उप पृ  
३७५) ।

जम्हाअ } देखो जंभाअ । जम्हाअइ,  
जम्हाह } जम्हाहइ, जम्हाहाइ (प्राक  
जम्हाडा } ६४) ।

जय सक [जि] १ जीतना । २ अक. उच्छृ-  
पन से बरतना । जयइ (महा) । जयंति (स  
३६) । संक्र. जइत्ता (ठा ६) ।

जय सक [यज्] १ पूजा करना । २ याग  
करना । जयइ (उत्त २५, ४) । वक्र,  
जअमाण (अनि १२५) ।

जय अक [यन्] १ यत्न करना, चेष्टा करना ।  
२ ब्याल करना, उपयोग करना । जयइ  
(उव) । भवि. जइस्सामि (महा) । वक्र.  
जयंत, जयमाण (स २६०; आ २६; ओष  
१२४; पुष्क २४१) । क. जइयव्य (उव;  
नुर १, ३४) ।

जय न [जगत्] जगत्, दुनियाँ, संसार  
(प्रासू १५५; से ६, १) । °त्तय न [°त्तय]  
स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक (मुप ७६;  
६५) । °नाह पुं [°नाथ] परमेश्वर, परमा-  
त्मा (पउम ८६, ६५) । °पहु पुं [°प्रभु]  
परमेश्वर (सुपा २८; ८) । °णंद वि  
[°निन्द] जगत् को आनन्द देनेवाला (पउम  
११७, ६) ।

जय वि [यत] १ संयत, जितेन्द्रिय (भास  
६५) । २ उपयोग रखनेवाला, ब्याल रखने-  
वाला (उत्त १; ग्राव ४) । ३ न. छडवाँ गुण-  
स्थानक (कम्म ४, ४८) । ४ ब्याल, उपयोग,  
सावधानता (एगाया १, १—पत्र ३३); 'जयं  
चरे जयं चिट्ठे' (दस ४) ।

जय पुं [जय] वेग, शोत्र-गमन, दौड़ (पात्र) ।

जय पुं [जय] १ जय, जीत, शत्रु का पराभव  
(श्रीप; कुमा) । २ स्वनाम-प्रसिद्ध एक चक्र-  
वर्ती राजा (सम १५२) । °उर न [°पुर]  
नगर-विशेष (स ६) । °कम्मा स्त्री [°कर्मा]  
विद्या-विशेष (पउम ७, १३३) । °घोस पुं  
[°घोष] १ जय-ध्वनि । २ स्वनाम-प्रसिद्ध  
एक जैन मुनि (उत्त २५) । °चंद्र पुं  
[°चन्द्र] १ विक्रम की बारहवीं शताब्दी का  
कन्नौज का एक अन्तिम राजा । २ पत्तरहवीं  
शताब्दी का एक जैनाचार्य (रयण ६४) ।  
°जत्ता स्त्री [°यात्रा] शत्रु पर चढ़ाई (सुपा  
५४१) । °पडाया स्त्री [°पताका] विजय  
का झंडा (आ १२) । °पुर देखो °उर (वसु) ।  
°मंगला स्त्री [°मङ्गला] एक राज-कुमारी  
(दंस ३) । °लच्छी स्त्री [°लक्ष्मी] जय-  
लक्ष्मी, विजयश्री (से ४, ३१; काप्र ७४३) ।  
°वत वि [°वत्] जय-प्राप्त, विजयी (पउम  
६६, ४६) । °वहह पुं [°वहभ] नृप-विशेष  
(दंस १) । °संध पुं [°सन्ध] पुण्डरीक-  
नामक राजा का एक मन्त्री (आहू ४) ।  
°संधि पुं [°सन्धि] वहाँ पूर्वोक्त अर्थ  
(आव ४) । °सद् पुं [°शब्द] विजय-सूचक  
आवाज (श्रीप) । °सिह पुं [°सिंह] १  
सिंहल द्वीप का एक राजा (रयण ४४) । २  
विक्रम की बारहवीं शताब्दी का गुजरात का  
एक प्रसिद्ध राजा, जिसका दूसरा नाम 'सिद्ध-  
राज' था; 'जिय जयसिहदेवो राया भणिकण

चयलदेसम्मि' (मुणि १०६००) । ३ स्वनाम-  
ख्यात जैनाचार्य-विशेष (सुपा ६५८); 'सिरि-  
जयसिहो पूरो सवन्तरोमएउलम्मि सुभ्रचिद्धो'  
(मुणि १०८७२) । °सिरि स्त्री [°श्री]  
विजयश्री, जयलक्ष्मी (आवम) । °सेण पुं  
[°सेन] स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा (महा) ।  
°वह वि [°वह] १ जय को बहन करने-  
वाला, विजयी (पउम ७०, ७; सुपा २३४) ।  
२ विद्यावर-नगर-विशेष (इक) । °वहपुर  
न [°वहपुर] एक विद्यावर-नगर (इक) ।  
°वास न [°वास] विद्यावरों का एक  
स्वनाम-ख्यात नगर (इक) ।

जय पुं [यत] प्रयत्न, चेष्टा, कोशिश (दस ५,  
१, ६६) ।

जय पुं स्त्री [जया] तिथि-विशेष—तृतीया,  
अष्टमी और त्रयोदशी तिथि (जं १) ।

जयं देखो जया = यदा । °पभिइ अ  
[°प्रभृति] जब से, जिस समय से (स  
३१६) ।

जयंत पुं [जयन्त] १ इन्द्र का पुत्र (पात्र) ।  
२ एक भावी बलदेव (सम १५४) । ३ एक  
जैन मुनि, जो वज्रसेन मुनि के तृतीय शिष्य  
थे (कम्प) । ४ इस नाम के देव-विमान में  
रहनेवाली एक उत्तम देव-जाति (सम ५६) ।  
५ जंबूद्वीप की जगती के पश्चिम द्वार का एक  
अभिष्ठाता देव (ठा ४, २) । ६ न. देव-  
विमान-विशेष (सम ५६) । ७ जम्बूद्वीप की  
जगती का पश्चिम द्वार (ठा ४, २) । ८ लूचक  
पर्वत का एक शिखर (ठा ४) ।

जयंती स्त्री [जयन्ती] १ पक्ष की नववीं रात  
(सुव १०, १४) । २ भगवान् अरनाय की  
दीक्षा-शिविका (विचार १२६) ।

जयंती स्त्री [जयन्ती] १ वल्लो-विशेष, अरणी,  
बर्ष गाँठ (परण १) । २ सप्तम बलदेव की  
माता (सम १५२) । ३ विदेह बर्ष की एक  
नगरी (ठा २, ३) । ४ अंगारक-नामक ग्रह की  
एक अग्र-महिषी (ठा ४, १) । ५ जम्बूद्वीप  
के मेरु से पश्चिम दिशा में स्थित लूचक पर्वत  
पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा =) ।  
६ भगवान् महावीर की एक उपासिका (भग  
१२, २) । ७ भगवान् महावीर के आठवें  
गणधर की माता (आवम) । ८ अंजनक

पवंत की एक बापी (तो २४) । ६ नवमी तिथि (जं ७) । १० जैन मुनियों की एक शाखा (कम्प) ।

जयण न [यजन्] १ याग, पूजा । २ अमयदान (परह २, १) ।

जयण न [यतन्] १ यत्न, प्रयत्न, चेष्टा, उद्यम; 'जयणवडण-जोग-वरित्त' (अनु) । २ यतना, प्राणी की रक्षा (परह २, १) ।

जयण वि [जयन्] वेगवाला, वेग-युक्त (कम्प) ।

जयण न [जयन] १ जीत, विजय (मुद्रा २६८; कम्प) । २ वि. जीतनेवाला (कम्प) ।

जयण न [दे] घोड़े का बस्तर, हय-संनाह (दे ३, ४०) ।

जयणा स्त्री [यतना] १ प्रयत्न, चेष्टा, कोशिश (निचू १) । २ प्राणी की रक्षा, हिंसा का परित्याग (वस ४) । ३ उपयोग, किसी जीव को दुःख न हो इस तरह प्रवृत्ति करने का ह्याल (निचू १; सं ६७; श्रौप) ।

जयदह पुं [जयद्रथ] सिन्धु देश का स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा, जो दुर्वाशन का बहनोई था (शाया १, १६) ।

जया अ [यदा] जिस समय, जिस वक्त (कम्प; काल) ।

जया स्त्री [जया] १ विद्या-विशेष (पउम ७, १४१) । २ चतुर्थ चक्रवर्ती राजा की अग्र-महिषी (सम १५२) । ३ भगवान् वासुदेव की स्वनाम ध्यात माता (सम १५१) । ४ तिथि-विशेष—तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि (सुज १०) । ५ भगवान् पार्श्वनाथ की शासनदेवी (तो ६) । ६ श्रौपधि-विशेष (राज) ।

जयार पुं [जकार] १ 'ज' अक्षर । २ जकारादि अश्लेष शब्द; 'जत्य जयारनयारं समणी जंपइ गिहवपचक्खं (गच्छ ३, ४) ।

जयिण देखो जइण = जयिन् (परह १, ४) ।

जर अक [ज] जीर्ण होना, पुराना होना, बूढ़ा होना । जरइ (हे ४, २३४) । कर्म, जोरइ, जरिजइ (हे ४, २५०) । बहू, जरंत (अच्छु ७६) ।

जर पुं [जर] रोग-विशेष, बुखार (कुमा) ।

जर पुं [जर] १ रावण का एक सुभट (पउम ५६, ३) । २ वि. जीर्ण, पुराना (दे ३, ५६) ।

जर वि [जरत्] जीर्ण, पुराना, बूढ़, बूढ़ा (कुमा; सुर २, ६६; १०४) । स्त्री. ई (कुमा; गा ४७२ अ) । °गव पुं [°गव] बूढ़ा बैल (बृह १; अनु ४) । °गवी स्त्री [°गवी] बूढ़ी गाय (गा ४६२) । °गु पुं [°गु] १ बूढ़ा बैल । २ स्त्री. बूढ़ी गाय; 'जिएणां य जरगवो पडिया' (पउम ३३, १६) ।

जरं देखो जरा (कुमा; अंत १६; वव ७) ।

जरंड वि [दे] बूढ़, बूढ़ा (दे ३, ४०) ।

जरग्ग वि [जरत्क] जीर्ण, पुराना (अनु ५) ।

जरठ वि [जरठ] १ कठिन, पुरुष । २ जीर्ण, पुराना (शाया १, १—पत्र ५) । देखो जरठ ।

जरड वि [दे] बूढ़, बूढ़ा (दे ३, ४०) ।

जरड देखो जरठ (पि १६८; से १०, ३८) । ३ प्रौढ, मजबूत (से १, ४३) ।

जरण न [जरण] जीर्णता, आहार का हजम होना, हाजमा (धर्मसं ११३५) ।

जरय पुं [जरक] रत्नप्रभा नामक तरक-पृथिवी का एक नरकावास (ठा ६—पत्र ३६५) । °मज्ज पुं [°मज्ज] नरकावास-विशेष (ठा ६) । °वत्त पुं [°वत्त] नरकावास-विशेष (ठा ६) । °वसिट्ठ पुं [°वसिट्ठ] नरकावास-विशेष (ठा ६) ।

जरलद्धिअ वि [दे] ग्रामीण, ग्राम्य (दे जरलद्धिअ ३; ४४) ।

जरा स्त्री [जरा] बूढ़ापा, बूढ़त्व (आचा; कस; प्राप् १३४) । °कुमार पुं [°कुमार] श्रीकृष्ण का एक भाई (अंत) । °संध पुं [°सन्ध] राजगृह नगर का एक राजा, नववां प्रतिवासुदेव, जिसको श्री कृष्ण वासुदेव ने मारा था (सम १५३) । °सिंध पुं [°सिन्धु] वही पूर्वोक्त अर्थ (परह १, ४—पत्र ७२) । °सिंधु पुं [°सिन्धु] वही पूर्वोक्त अर्थ (शाया १, १६—पत्र २०६; पउम ५, १५६) ।

जरा स्त्री [जरा] वासुदेव की एक पत्नी (कुप्र ६६) ।

जराहिरण (अप) देखो जल-हरण (पिग) ।

जरि वि [जरिन्] बुखारवाला, ज्वर से पीड़ित (सुपा २४३) ।

जरि वि [जरिन्] जरा-युक्त, बूढ़, बूढ़ा (दे ३, ५७, जर ३, १) ।

जरिअ वि [जरित] ज्वर-युक्त, बुखारवाला (गा २९६; सुपा २८६) ।

जल अक [ज्वल्] १ जलना, दग्ध होना । २ चमकना । जलइ (महा) । बहू, जलंत (उवा; गा २६४) । हेहू, जलित्तं (महा) । प्रयो., बहू, जलित्तं (महानि ७) ।

जल देखो जड (था १२; श्राव ४) ।

जल न [जाड्य] जड़ता, मन्दता; 'जलधोय-जललेवा' (सार्ध ७३; से १, २४) ।

जल पुं [ज्वल्] देदीप्यमान, चमकीला (सूप्र १, ५, १) ।

जल न [जल] वीर्य (वजा १०२) । °कंत पुं [°कान्त] एक देवविमान (देवेन्द्र १४४) । °कारि पुं [°कारिन्] चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष (उत्त ३६, १४६) । °य वि [°ज] पानी में उत्पन्न (श्रु ६८) । °वारिअ पुं [°वारिक] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति (सुख ३६, १४६) ।

जल न [जल] १ पानी, उदक (सूप्र १, ५, २; जी २) । २ पुं, जलकान्त-नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) । °कंत पुं [°कान्त] १ मणि-विशेष, रत्न की एक जाति (परण १; कुम्मा १५) । २ इन्द्र-विशेष, उदधिकुमार-नामक देव-जाति का दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३) । ३ जलकान्त इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) । °करप्फाल पुं [°करात्फाल] हाथ से आहत पानी (पाप्र) । °करि पुं [°करिन्] पानी का हाथी, जल-जन्तु विशेष (महा) । °कलंब पुं [°कलम्ब] कदम्ब वृक्ष की एक जाति (गउड) । °कीडा, °कीला स्त्री [°कीडा] पानी में की जाती कीड़ा, जल-कील (शाया १, २) । °केलि स्त्री [°केलि] जल-कीड़ा (कुमा) । °चर देखो °यर (कम्प; हे १, १७७) । °चार पुं [°चार] पानी में चलना (आचा २, ५; १) । °चारण पुं [°चारण] जिसके प्रभाव से पानी में भी-भूमि की तरह चला जा सके ऐसी अलौकिक शक्ति रखनेवाला मुनि (गच्छ २) । °चारि पुं [°चारिन्] पानी में रहनेवाला जंतु (जी २०) ।



°चारिया स्त्री [°चारिका] बुध जन्तु-विशेष, चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (राज)।  
 °जंत न [°यन्त्र] पानी का यन्त्र, पानी का फवारा (कुमा)। °णाह पुं [°नाय] समुद्र, सागर (उप ७२८ टी)। °णिहि पुं [°निधि] समुद्र, सागर (गडड)। °णीली स्त्री [°नीली] शैवाल (दे ३, ४२)। °तुसार पुं [°तुपार] पानी का विन्दु (पात्र)। °थंभिणी स्त्री [°स्तम्भिनी] विद्या-विशेष (पउम ७, १३६)। °द पुं [°द] मेघ, अन्न (मुद्रा २६२; पव १८)। °द्वा स्त्री [°द्रा] पानी से भीजाया हुआ पंखा (सुपा ४१३)। °निहि देखो °णिहि (प्रासु १२७)। °पपभ पुं [°प्रभ] ? इन्द्र-विशेष, उदविकुमार-नामक देव-जाति का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३)। २ जलकान्त नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४; १)। °य न [°ज] कमल, पद्म (पउम १२, ३७; श्रौप; परए १)। °य देखो °द (काल; गडड; से १, २४)। °यर पुंस्त्री [°चर] जल में रहने-वाला ग्राहादि जन्तु (जी २०)। स्त्री. °री (जीव २)। °रंकु पुं [°रंङ्क] पक्षि-विशेष, हँक-पक्षी (गा ५७८; गडड)। °रक्खस पुं [°राक्षस] राक्षस की जाति (परए १)। °रमण न [°रमण] जल-झीड़ा, जल-कैलि (राया १, १३)। °रय पुं [°रय] जलप्रम-नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १)। °रासि पुं [°राशि] समुद्र, सागर (सुपा १६५; उप २६४ टी)। °रुह पुं [°रुह] पानी में पैदा होनेवाली वनस्पति (परए १)। °रुव पुं [°रुप] जलकान्त-नामक इन्द्र का एक लोकपाल (मग ३, ८)। °रुल्लिर न [°रुल्लिर] पानी में उत्पन्न होनेवाली वस्तु-विशेष (दंत १)। °वायस पुंस्त्री [°वायस] जलकौआ, पक्षि-विशेष (कुमा)। °वासि वि [°वासिन्] ? पानी में रहनेवाला। २ पुं. तापसों की एक जाति, जो पानी में ही निमग्न रहते हैं (श्रौप)। °वाह पुं [°वाह] ? मेघ, अन्न (उप पृ ३२; सुपा ८६)। २ जन्तु-विशेष (पउम ८८, ७)। °विच्छुय पुं [°वृश्चिक] पानी का विच्छ, चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष (परए १)। °वीरिय पुं

[°वीर्य] ? इक्ष्वाकु वंश का एक स्वनाम-व्यात राजा (ठा ८)। २ बुध कीट-विशेष, चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति (जीव १)। °सय न [°शय] कमल, पद्म (उप १०३१ टी)। °साला स्त्री [°शाला] प्रपा, पानी पिलाने का स्थान, प्याऊ (था १२)। °सुग न [°शुक] ? शैवाल। २ जलकान्त-नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १)। °सेल पुं [°शैल] समुद्र के भीतर का पर्वत (उप ५६७ टी)। °हृदिथ पुं [°हृदिथन्] जल-हृत्ती, पानी का एक जन्तु (पात्र)। °हर पुं [°धर] ? मेघ, अन्न (सुर २, १०४; से १, ५६)। २ एक विद्याधर मुमट (पउम १२, ६५)। °हर पुं [°भर] जल-समूह (गडड)। °हर न [°गृह] समुद्र, सागर (से १, ५६)। °हरण न [°हरण] ? पानी की क्यारी (पात्र)। २ रुद्र-विशेष (पिंग)। °हि पुं [°धि] ? समुद्र, सागर (महा; सुपा २२३)। २ चार की संख्या (विवे १४४)। °सय पुं न [°शय] सरोवर, तलाव (सुर ३, १)। जलइय पुं [जलकित] जलकान्त-नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४; १—पत्र १६८)। जलंजलि पुं [जलाञ्जलि] तपण, दोनों हाथों में लिया हुआ जल (सुर ३, ५१; कप्पू)। जलग पुं [ज्वलक] अग्नि, आग (पिड)। जलजलिअ वि [जलजलित] 'जल-जल' शब्द से युक्त (सिरि ६६४)। जलजलित वि [जाज्वल्यमान] देवीप्यमान, चमकता (कप्प)। जलग पुं [ज्वलग्न] ? अग्नि, वहि (उप ६४८ टी)। २ देवों की एक जाति, अग्नि-कुमार-नामक देव-जाति (परए १, ४)। ३ वि. जलता हुआ। ४ चमकता, देवीप्यमान; 'एईए जलगजलणोवमाण' (उव ६४८ टी)। ५ जलानेवाला (सुत्र १, १, ४)। ६ न. अग्नि सुलगाना (परए १, ३)। ७ जलाना, भस्म करना (गच्छ २)। °जडि पुं [°जटिन्] विद्याधर वंश का एक राजा (पउम ५, ४६)। °मित्त पुं [°मित्र] स्वनाम-व्यात एक प्राचीन कवि (गडड)। जलावण न [ज्वालन्] जलाना, दह कराना (परए १, १)।

जलिअ वि [ज्वलित] ? जला हुआ, प्रदीप्त (सुत्र १, ५, १)। २ उज्वल, कान्ति-युक्त (परए २, ५)। जलिर वि [ज्वलित्] जलता, सुलगता (धर्मवि ३५; कुप्र ३७६)। जलूगा } स्त्री [जलौकस्] ? जन्तु-जलूया } विशेष, जाँक, जलिका, जल का कीड़ा (पउम १, २४; परए १, १)। २ पक्षि-विशेष (जीव १)। जलूसग पुं [दे] रोग-विशेष (उप पृ ३३२)। जलोयर न [जलोदर] रोग-विशेष, जलन्वर, जठराम (सरा)। जलोयरि वि [जलोदरिन्] जलन्वर रोग से पीड़ित (राज)। जलोया देखो जलूया (जी १५)। जल्ल पुं [दे. जल्ल] ? शरीर का मैल, मुखा पसीना (सम १०; ४०; श्रौप)। २ नट की एक जाति, रस्ती पर खेल करनेवाला नट (परए २, ४; श्रौप; राया १, १)। ३ वन्दो, दिव्य-पाठक (राया १, १)। ४ एक म्लेच्छ देश। ५ उस देश में रहनेवाली म्लेच्छ जाति (परए १, १—पत्र १४)। जल्लार पुं [जल्लार] ? स्वनाम-प्रसिद्ध एक अनार्य देश। २ जल्लार देश का निवासी (इक)। जल्लिय न [दे. जल्लक] शरीर का मैल (उत्त २४)। जल्लोसहि स्त्री [दे. जल्लोपधि] एक तरह की आध्यात्मिक शक्ति, जिसके प्रभाव से शरीर के मैल से रोग का नाश होता है (परए २, १; वित्ते ७७६)। जव सक [यापय्] ? गमन करवाना, भेजना। २ व्यवस्था करना। जवइ (हे ४, ४०)। हेइ. जवित्तए (सुत्र १, ३, २)। कृ जवणिज्ज, जवणीय (राया १, ५; हे १, २४८)। जव सक [यापय्] काल-यापन करना, पसार करना। जवेति (पिड ६१६)। जव सक [जप्] जाप करना, बार-बार मन ही मन देवता का नाम स्मरण करना, पुनः पुनः मन्त्रोच्चारण करना। जवइ (रंभा); 'तप्पति तवमणे जवति मंते तथा सुविजाओ'

(सुपा २०२)। वक्र, जवंत (नाट)। क्वक, जविजंत (सुर १३, १८६)।

जय पुं [जप] जाप, पुनः पुनः मन्त्रोच्चारण, बार-बार मन ही मन देवता का नाम-स्मरण (परह २०, २; सुपा १२०)।

जय पुं [यव] १ अन्न-विशेष, जव या जौ (राया १, १; परह १, ४)। २ परिमाण-विशेष, आठ बूका को नाप (ठा ८)। °णाली स्त्री [°नाली] वह नाली जिसमें जौ बोए जाते हैं (आचू १)। °मज्झ न [°मध्य] १ तप-विशेष (पउम २२, २४)। २ आठ बूका का एक नाप (पव २५)। °मज्झा स्त्री [°मध्या] व्रत-विशेष, प्रतिमा-विशेष (ठा ४, १) °राय पुं [°राज] नृप-विशेष (वृह १)। °वंसा स्त्री [°वंशा] वनस्पति-विशेष (परण १)।

जय पुं [जय] वेग, दौड़, शीघ्र गति (कुमा)।

जय पुंन [यय] एक देवविमान (देवेन्द्र १४०)। °नालय पुं [°नालक] कन्या का कंचुक (संदि ८८ टी)। °त्र न [°त्र] यव-निष्पन्न परमान्न, भोज्य-विशेष, जव की खीर, जाउर (पव २५६)।

जयजय पुं [यययय] अन्न-विशेष, एक तरह का यव-धान्य (ठा ३, १)।

जयण न [दे] हल की शिखा, हल की चोटी (दे ३, ४१)।

जयण न [जपन] जाप, पुनः पुनः मन्त्र का उच्चारण; 'ग्रहिणा ददुस्स जप को कालो मंत-जवणम्मि' (पउम ८६, ६०; स ६)।

जयण वि [जयन] १ वेग से जानेवाला (उप ७६८ टी)। २ पुं, वेग, शीघ्र गति (आवमं)।

जयण पुं [ययन] १ म्लेच्छ देश-विशेष (पउम ६८, ६४)। २ उस देश में रहनेवाली मनुष्य-जाति (परह १, १)। ३ यवन देश का राजा (कुमा)।

जयण न [यापन] निर्वाह, गुजारा, (उत्त ८)।

जयणा स्त्री [यापना] ऊपर देखो (पव २)।

जयणागिया स्त्री [ययनानिका] लिपि-विशेष (राज)।

जयणालिया स्त्री [ययनालिका] कन्या का कंचुक (आवमं)।

जयणिआ स्त्री [ययनिका] परदा (दे ४, १; सण; कप्प)।

जयणिज्ज देखो जय = यापय।

जयणी स्त्री [ययनी] परदा, आच्छादक पट (दे २, २५)। २ संचारिका, दूती (अग्नि ५७)।

जयणी स्त्री [यायनी] १ यवन की स्त्री। २ यवन की लिपि (सम ३५; वित्ते ४६४ टी)।

जयणीअ देखो जय = यापय।

जयपचमाण पुं [दे] जात्यश्व का वायु-विशेष, प्राण-वायु (गउड)।

जयय } पुं [दे] जय का अंकुर (दे ३, जवरय } ४२)।

जयली स्त्री [दे] जव, वेग; 'गच्छंति गल्य-नेहेण पवरपुर्याहिह्ण्डा जवलीए' (सुपा २७६)।

जयवारय [दे] देखो जवरय (पंचा ८)।

जयस न [ययस] १ तृण, घास; 'गिट्टिव्व जयसम्मि' (उप ७२८ टी; उप पृ ८४)। २ गेहूँ वगैरह घान्य (आचा २, ३, २)।

जया स्त्री [जया] १ वल्ली-विशेष, जवा-पुष्प का वृक्ष। २ गुड़हल का फूल, अड़हुल का पुष्प (कुमा)।

जयास पुं [यायास] वृक्ष-विशेष, रक्त पुष्प-वाला वृक्ष-विशेष; 'पाउसि जयासो' (या २३; परण १); 'जयासाकुमुमे इ वा' (परण १७)।

जवि } वि [जविन्] १ वेगवाला, वेग-भुक्त  
जविण } सुपा ११२)। २ पुं, शरव, घोड़ा (राज)।

जविअ वि [जपित] १ जिसका जाप किया गया हो वह (मन्त्र आदि) (सिरि ३६६)। २ न, अव्ययन; प्रकरण आदि ग्रंथांश (सुख २, १३)।

जविय वि [यापित] १ गमित, गुजरा हुआ। २ नाशित (कुमा)।

जस पुं [ययास] १ कीर्ति, इज्जत, सुख्याति (श्रोण; कुमा)। २ संयम, त्याग, विरति (वव १; दस ५, २)। ३ विनय (उत्त ३)। ४ भगवान् अनन्तनाथ का प्रथम शिष्य (सम १५२)। ५ भगवान् पार्श्वनाथ

का आठवां प्रधान शिष्य (कप्प)। °किन्ति स्त्री [°कीर्त्ति] सुख्याति, सुप्रसिद्धि (सूय १, ६; आचू १)। °भद पुं [°भद्र] स्वनाम-ख्यात एक जैन आचार्य (कप्प; सार्ध १३)। °म. मंत वि [°वत्] १ यशस्वी, इज्जतदार, कीर्त्तिवाला (परह १, ४)। २ पुं, स्वनाम-प्रसिद्ध-एक कुलकर पुरुष (सम १५०)। °वई स्त्री [°वती] १ द्वितीय चक्रवर्ती सगर-राज की माता (सम १५२) २ तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी की रात्रि (चंद १०)। °वम्म पुं [°वर्मन्] स्वनाम-ख्यात नृप-विशेष (गउड)। °वाय पुं [°वाद] साधुवाद, यशो-गान, प्रशंसा (उप ६८६ टी)। °विजय पुं [°विजय] विक्रम की अठारहवीं शताब्दी का एक जैन सुप्रसिद्ध ग्रन्थकार, न्यायाचार्य श्रीमान् यशोविजय उपाध्याय (राज)। °हर पुं [°धर] १ भारतवर्ष का भूत कालिक अठारहवां जिन-देव (पव ८)। २ भारतवर्ष के एक भावी जिन-देव (पव ४६)। ३ एक राज-कुमार (धम्म)। ४ पक्ष का पांचवां दिन (जं ७)। ५ वि, यश को धारण करनेवाला, यशस्वी (जीव ३)। देखो जसो।

जसंसि पुं [यशस्विन्] भगवान् महावीर के पिता का एक नाम (आचा २, १५, ३; कप्प)।

जसद् पुं [जसद्] वातु-विशेष, जस्ता (राज)। जसदेव पुं [यशोदेव] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य (पव २७६)।

जसभद् पुं [यशोभद्र] १ पक्ष का चतुर्थ दिवस (सुज्ज १०, १४)। २ एक राजर्षि, जो वागड देश के रत्नपुर नगर का राजा था और जिसने जैनी दीक्षा ली थी, जो आचार्य हेमचन्द्र के गुरु थे (कुप्र ७; १८)। ३ न, उड़डुवाटिक गण का एक कुल (कप्प)।

जसवई स्त्री [यशोमती] भगवान् महावीर की दौहित्री का नाम (आचा २ १५, ३)।

जसस्सि वि [यशस्विन्] यशस्वी, कीर्त्तिमान् (सूय १, ६, ३, श्रु १४३)।

जसहर पुंन [यशोधर] एक देव-विमान (देवेन्द्र १४१)।

जसा स्त्री [यशा] कपिलमुनि की माता (उत्त ८)।

जसो° देखो जस। °आ स्त्री [°दा] १ नन्द नामक गोप की पत्नी (गा ११२; ६५७)। २ भगवान् महावीर की पत्नी (कम्प)। °कामि वि [°कामिन्] यश चाहने-वाला (दस २)। °कित्तिनाम न [°कीत्तिनामन्] कर्म-विशेष, जिसके प्रभाव से सुयश फैलता है (सम ६७)। °धर पुं [°धर] १ धरणेन्द्र के अश्व-सैन्य का अधिपति देव (ठा ५, १)। २ न. प्रवेद्यक देवलोक का प्रस्तर (इक)। °हरा स्त्री [°धरा] १ दक्षिण रुचक पर्वत पर रहनेवाली एक दिशाकुमारी देवी (ठा ८)। २ जम्बू-वृक्ष विशेष, सुदर्शना (जीव ३)। ३ पल की चौथी रात्रि (जो ४)। जसोधर देखो जस-हर (सुज १०, १४)। जसोधरा देखो जसो-हरा (सुज १०, १४)। जसोया स्त्री [यशोदा] भगवान् महावीर की पत्नी का नाम (आचा २, १५, ३)। जह सक [हा] त्याग देना, छोड़ देना। जहइ (पि ६७)। वक्र. जहंत (वव ३)। कृ. जहणिज (राज)। संकृ. जहित्ता (पि ५८२)। जह अ [यत्र] जहां, जिसमें (हे २, १६१)। जह अ [यथा] जिस तरह से, जैसे (ठा ३, १; स्वप्न २०)। °क्रम न [°क्रम] क्रम के अनुसार, अनुक्रम (पंचा ६)। °कस्वाय देखो अह-कस्वाय (आवम)। °द्विय वि [°स्थित] वास्तविक, सत्य (सुर १, १६२; सुपा ५७)। °थ वि [°र्थ] वास्तविक, सत्य (पंचा १५)। °थनाम वि [°र्थनामन्] नाम के अनुसार गुणवाला, अन्वयं (था १६)। °थवाइ वि [°र्थवादिन्] सत्य-वक्ता (सुर १४, १६)। °प्य न [यायात्स्य] वास्तविकता, सत्यता (राज)। °रिह न [°ह] उचितता के अनुसार (सुपा १६२)। °वद्विय वि [°वृत्त] सत्य, यथार्थ (सुपा ५२६)। °विहि पुंस्त्री [°विधि] विधि के अनुसार 'नहगामिरिणपमुहाओ जहविहिणा साहियव्वाओ' (सुर ३, २८)। °संख न [°संख्य] संख्या के क्रम से, क्रमानुसार (नाट)। देखो जहा = यथा। जहअ न [जघन] कमर के नीचे का भाग (गा १६६; शाया १, ६)।

जहणरोह पुं [दे] ऊरु, जंघा, जांघ (दे ३, ४४)। जहणा स्त्री [हान] परित्याग (संघोष ५६)। जहणूसव } न [दे] अर्धालक, जघनांशुक, जहणूसुअ } स्त्री को पहनने का वस्त्र-विशेष (दे ३, ४५; पड्)। जहण्ण } वि [जघन्य] निकट, हीन, अवम, जहन्न } नीच (सम ८; भग; ठा १; १; जी ३८; दं ६)। जहा = देखो जह = हा। (पि ३५०)। संकृ. जहाइत्ता, जहाय (सुअ १, २, १; पि ५६१)। जहा देखो जह = यथा (हे १, ६७; कुमा)। °जुत्त वि [°युक्त] यथोचित, योग्य (सुर २, २०१)। जेट्ट न [°ज्येष्ठ] ज्येष्ठता के क्रम से (अणु)। °णामय वि [°नामक] जिसका नाम न कहा गया हो, अनिदिष्ट-नामा, कोई (जीव ३)। °तच्च न [°तथ्य] सत्य, वास्तविक (आचा)। °तह न [°तथ] सत्य, वास्तविक (राज)। °तह न [याथातथ्य] वास्तविकता, सत्यता; 'जाणासि एं भिक्षु जहातहेण' (सुअ १, ६)। २ 'सूत्रकृताङ्गं सूत्र का एक अव्ययन (सुअ १, १३)। °पवट्टकरण न [°प्रवृत्तकरण] आत्मा का परिणाम-विशेष (आचा)। °भूय वि [°भूत] सचा, वास्तविक (शाया १, १)। °राइणिया स्त्री [°रालिकता] ज्येष्ठता के क्रम से, वड़प्पन के अनुसार (कस)। °रुह देखो जह-रिह (स ४६३)। वित्त न [°वृत्त] जैसा हुआ हो वैसा; यथार्थ (सं २४)। °सत्ति स्त्री [°शक्ति] शक्ति के अनुसार (पंचा ३)। जहाजाय वि [दे. यथाजात] जड़, मूल, देवकूप (दे ३, ४१; परह १, ३)। जहि° देखो जह = यत्र (हे २, १६१; गा जहि° १३१; प्रासू ५६)। जहियं देखो जहिं (पिड ५८)। जहिच्छ न [यथेच्छ] इच्छा के अनुसार (सुपा १६; पिग)। जहिच्छिय न [यथेप्सित] इच्छानुकूल, इच्छानुसार (पंचा १)।

जहिच्छिया स्त्री [यदच्छा] मरजी, स्वेच्छा-स्वच्छन्दता (गा ४५३; विसे ३१६; स ३३२)। जहिट्टिल पुं [युधिट्टिर] पाण्डु-राजा का ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पाण्डव (हे १, १०७; प्राप्र)। जहिमा स्त्री [दे] विदग्ध पुत्र की वनाई हुई गाय (दे ३, ४२)। जहुट्टिल देखो जहिट्टिल (हे १, ६६; १०७)। जहुत्त न [यथोक्त] कथनानुसार (पडि)। जहेअ अ [यथैव] जैसे ही (से ६, १६)। जहेच्छ देखो जहिच्छ (गा ८८२)। जहोइय न [यथोदित] कथनानुसार (वर्म ३)। जहोइय } न [यथोचित] योग्यता के अनु- जहोच्चिय } सार (से ८, ५; सुपा ४७१)। जा अक [जन्] उत्पन्न होना। जाअइ (हे ४, १३६)। वक्र. जायंत (कुमा)। संकृ. 'एकके न्चिय निन्विणया पुणी-पुणी जाइइं-च मरिउं च' (स १३०)। जा सक [या] १ जाना, गमन करना। २ प्राप्त करना। ३ जानना। जाइ (सुपा ३०१)। जंत (महा)। वक्र. जंत (सुर ३, १४३; १०, ११७)। कवक. जाइजमाण (परह १, ४)। जा सक [या] सकना, समर्थ होना; 'किन्तु मम एत्य न जाइ पव्वइउं', 'वहिट्टियाणं कि जायइ अज्जाइउं' (सुज २, १३)। जां देखो जाव = यावत् (हे १, २७१; कुमा; सुर १५, १३८)। जाअ देखो जायं = जाप (हात्य १३२)। जाअं देखो जा = या। जाअइ (प्राकृ ६६)। जाअर देखो जागर (मुद्रा १८७)। जाभा स्त्री [यात्] देवर-भार्या, देव की पत्नी, देवरानी (प्राकृ ४३)। जाइ स्त्री [जाति] १ पुष्प-विशेष, मालती (कुमा)। सामान्य नैयायिकों के मत से एक वर्म-विशेष, जो व्यापक हो; जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व, गो का गोत्व (विसे १६०१)। २ जात, कुल, गोत्र, वंश, जाति (ठा ४, २; सूअ ६, १३; कुमा)। ४ उत्पत्ति, जन्म (उत्त ३; पडि)। ५ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य आदि जाति (उत्त ३)। ६ पुष्प-प्रधान वृक्ष, जाई का पेड़ (परण १)।

७ मय-विशेष (विपा १, २) । °आजीव पुं [°आजीव] जाति की समानता बतला कर भिखा प्राप्त करनेवाला साधु (ठा ५, १) । °थेर पुं [स्थविर] साठ वर्ष की उम्र का मुनि (ठा ३, २) । °नाम न [°नामन्] कर्म-विशेष (सम ६७) । °पसण्णा स्त्री [°प्रसन्ना] जाति के पुष्पों से वासित मदिरा (जीव ३) । °फल न [°फल] १ वृक्ष-विशेष । २ फल-विशेष, जायफल, एक गर्म मसाला (सुर १३, ३३; सण) । °मंत वि [°मन्] उच्च जाति का (आचा २, ४, २) । °मय पुं [°मद्] जाति का अग्निमान (ठा १०) । °वत्तिया स्त्री [°पत्रिका] १ सुगन्धित फलवाला वृक्ष-विशेष । २ फल-विशेष, एक गर्म मसाला (सण) । °सर पुं [°स्मर] १ पूर्व जन्म की स्मृति । २ वि. पूर्व जन्म को स्मरण करनेवाला, पूर्व-जन्म का ज्ञान-वाला; 'जाइसराई मन्ने इमाई नयणाई सयल्लोयस्स' (सुर ४, २०८) । °सरण न [°स्मरण] पूर्व जन्म की स्मृति (उत्त १६) । °स्सर देवो °सर (कप्प; विसे १६७१; उप २२० टी) ।

जाइ स्त्री [जाति] १ न्याय-शास्त्र-प्रसिद्ध दूषणाभास—असत्य दूषण (धर्मसं २६०; स ७११) । २ माता का वंश (पिंड ४३८) ।

जाइ देखो जाया (पड्) ।

जाइ स्त्री [दे] १ मदिरा, सुरा, दारु (दे ३, ४५) । २ मदिरा-विशेष (विपा १, २) ।

जाइ वि [याजिन्] यज्ञ-कर्ता (वसनि १, १४६) ।

जाइ वि [याथिन्] जानेवाला (ठा ४, ३) ।

जाइअ वि [याचित] प्रार्थित, मांगा हुआ (विसे २५०४; गा १६५) ।

जाइअ देखो जाय = जात (वज्जा १४४) ।

जाइच्छिं वि [याट्च्छिंक्] १ इच्छा-जाइच्छिंय } नुसार, यवेच्छ (धर्मसं १२) ।  
२ इच्छानुसारी (धर्मसं ६०२) ।

जाइच्छिंय वि [याट्च्छिंक्] स्वेच्छा-निमित्त (विसे २५) ।

जाइजंत देखो जाय = यातय् ।

जाइजंत } देखो जाय = याच् ।  
जाइजमाण }

जाइणी स्त्री [याकिनी] एक जैन साध्वी, जिसको सुप्रसिद्ध जैन ग्रन्थकार श्री हरिभद्र-सूरि अपनी धर्म-माता समझते थे (उप १०३६) ।

जाइयव्यय न [यातव्य] गमन, गति (सुख २, १७) ।

जाइअ वि [जातीय] जाति-सम्बन्धी (श्रावक ४०) ।

जाउ न [जायु] क्षीरपेया, यवाशू, मांड़ की कांजी, लपसी, छाद्य-विशेष (पिंड ६२५) ।

जाउ अ [जातु] कदाचित्, कभी (उवकु ११) ।

जाउ अ [जातु] किसी तरह (उप ५४७) ।

°कण्ण पुं [°कण] पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र का गोत्र (इक) ।

जाउ स्त्री [यात्] १ देवर-पत्नी, देवरानी । २ वि. जानेवाला (संक्षि ४) ।

जाउया स्त्री [यात्का] देवर-पत्नी, पति के छोटे भाई की स्त्री, देवरानी (साया १, १६) ।

जाउर पुं [दे] कपित्थवृक्ष, कैय का फल (दे ३, ४५) ।

जाउल पुं [जातुल] बल्ली-विशेष (पण्य १—पत्र ३२) ।

जाउहाण पुं [यातुधान] राक्षस (उप १०३१ टी; पाय) ।

जाग पुं [याग] १ यज्ञ, अश्वर, होम, हवन (पउम १४, ४७; सं १७१) । २ देव-पूजा (साया १, १) ।

जागर अक [जागृ] जागना, निद्रा-त्याग करना । जागरइ (पड्) । वक्क. जागरमाण (विसे २७१६) । हेक्क. जागरित्ताए, जाग-रेत्ताए (कप्प; कस) ।

जागर वि [जागर] १ जागनेवाला, जागता (आचा; कप्प आ २५) । २ पुं, जागरण, निद्रा-त्याग (मुद्रा १८७; भग १२, २; सुर १३, ६७) ।

जागरइत्तु वि [जागरित्] जागनेवाला (आ २३) ।

जागरिअ वि [जागृत] जागा हुआ, निद्रा-रहित, प्रबुद्ध (साया १, १६; आ २५) ।

जागरिअ वि [जागरिक] निद्रा-रहित (भग १२, २) ।

जागरिया स्त्री [जागरिका, जागरिया] जागरण, निद्रा त्याग (साया १, १; औप) ।

जागरुअ वि [जागरुक] जागता, जागा हुआ, जागने के स्वभाववाला (धर्मवि १३९) ।

जाजावर वि [यायावर] गमनशील, बिनधर (सम्मत्त १७४) ।

जाडी स्त्री [दे] गुल्म; लता-प्रदान (दे ३, ४५) ।

जाण सक [ज्ञा] जानना, ज्ञान प्राप्त करना, समझना । जाणइ (हे ४, ७) । वक्क. जाणत, जागमाण (कप्प; विपा १, १) । संक्क. जाणिऊण, जाणित्ता, जाणित्तु (पि ५८६, महा; भग) । हेक्क. जाणिउं (पि ५७६) । क्क. जाणियव्व (भग; अंत १२) ।

जाण पुंन [यान] १ रथादि वाहन, सवारो (औप; पण्य २, ५; ठा ४, ३) । २ यान-पात्र, नौका, जहाज; 'नारां संसारसमुद्धारणे वंधुरं जारो' (पुष्प ३७) । ३ गमन, गति (राज) । °पत्त, °वत्त न [°पात्र] जहाज, नौका (नमि ५; सुर १३, ३१) । °साला स्त्री [°शाला] १ तबेला, अस्तबल । २ वाहन बनाने का कारखाना (औप; आचा २, २, २) ।

जाण न [ज्ञान] ज्ञान, बोध, समझ (भग; कुमा) ।

जाणं वि [जानत्] जानता हुआ, 'जारो कारणेण खाउट्ठी' (सूय १, ५, १); 'आमु-पण्णेण जारणा' (आचा) ।

जाणई स्त्री [जानकी] सीता, राम-पत्नी (पउम १०६, १८; से ६, ६) ।

जाणग वि [ज्ञायक] जानकार, ज्ञानी, जाननेवाला (सूय १, १, १; महा; सुर १०, ६५) ।

जाणगी देखो जाणई (पउम ११७, १८) ।

जाणण न [दे] वरात, गुजराती में 'ज्ञान'; 'जो तदवत्याए समुच्चिओत्ति जाणणणाइओ' (उप ५६७ टी) ।

जाणण न [ज्ञान] जानना, जानकारी, समझ, बोध (हे ४, ७; उप पृ २३; सुपा ४१६; सुर १०, ७१; सण १४; महा) ।

जाणणया स्त्री. ऊपर देखो (उप ५१६; जाणणा } विसे २१४८; अणु; आचू ०) ।

जाणय देखो जाणग (भग; महा) ।

जाणय वि [ज्ञापक] जनानेवाला, समझाने-वाला (श्रीप) ।  
जाणया स्त्री [ज्ञान] ज्ञान, समझ, जानकारी; 'एएंसि पयार्ण जाणजाए सवणयाए' (भग) ।  
जाणवय वि [ज्ञानपद] १ देश में उत्पन्न, देश-संबन्धी (भग; खाया १, १—पत्र १) ।  
जाणाव सक [ज्ञापय] ज्ञान करना, जनाना । जाणावइ, जाणावेइ (कुमा; महा) । हेऊ. जाणाविडं, जाणावेडं (पि ५५१) । क. जाणावेयव्य (उप पृ २२) ।  
जाणावण न [ज्ञापन] ज्ञापन, बोधन (पउम ११, ८८; सुपा ६०६) ।  
जाणावणा स्त्री [ज्ञापनी] विद्या-विशेष जाणावणी (उप पृ ४२; महा) ।  
जाणाविय वि [ज्ञापित] जनाना, विज्ञापित, मालूम कराया, निवेदित (सुपा ३५६; श्रावम) ।  
जाणि वि [ज्ञानिन्] ज्ञाता, जानकार (कुमा) ।  
जाणिअ वि [ज्ञात] जाना हुआ, विदित (सुर ४, २१४; ७, २६) ।  
जाणु न [जानु] १ घोंटू, घुटना । २ ऊरु और जंघा का मध्य भाग (तंदु; निर १, ३; खाया १, २) ।  
जाणु वि [ज्ञायक] जाननेवाला, ज्ञाता, जाणुअ जानकार (ठा ३, ४; खाया १, १३) ।  
जाणे श्र [जाने] उत्प्रेक्षा-सूचक श्रव्यय, मानो (श्रमि १५०) ।  
जाम सक [मृज्] मार्जन करना, सफा करना । जामइ (नाट—प्राप्र ८० टी) ।  
जाम पुं [याम] १ प्रहर, तीन घण्टा का समय (सम ४४; सुर ३, २४२) । २ यम, श्रद्धिआ आदि पाँच व्रत । ३ उन्न-विशेष, आठ से बत्तीस, बत्तीस से साठ और साठ से अधिक वर्ष की उन्न (आचा) । ४ वि. यम-संबन्धी, जमराज का (सुपा २०५) । ५ इल्ल वि [वन्] १ प्रहखाला (हे २, १५६) । २ पुं. प्राहरिक, पहरेदार, यामिक (सुपा ५) । ३ दिसा स्त्री [दिश] दक्षिण दिशा (सुपा ४०५) । ४ वई स्त्री [वती] रात्रि, रात (गडड) ।

जाम देखो जाव = यावत् (आरा ३३) ।  
जामाइ देखो जामाउ (पिड ४२४) ।  
जामगहण न [यामग्रहण] प्राहरिकत्व, पहरेदारी (सुख २, ३१) ।  
जामाउ पुं [जामाउ, °क] जामाता, जामाउय दादा, लड़की का पति (पउम ८६, ४; हे १, १३१; गा ६८३) ।  
जामि स्त्री [जामि, यामि] वहिन, भगिनी (राज) ।  
जामिअ देखो जामिग (धर्मवि १३५) ।  
जामिग पुं [यामिक] प्राहरिक, पहरेदार, पहरेदार (उप ८३३) ।  
जामिणी स्त्री [यामिनी] रात्रि, रात (उप ७२८ टी) ।  
जामिल्ल देखो जामिग (सुपा १४६; २६६) ।  
जामेअ पुं [यामेय] भानजा, भगिनिय, वहिन का पुत्र (धर्मवि २२) ।  
जाय सक [याच] प्रार्थना करना, माँगना । वक. जायंत (वरह १; ३) । कवक. जाइ-जंत (पउम ५, ६८) ।  
जाय सक [यातय] पीड़ना, यन्त्रणा करना । जाएइ (उव) । कवक. जाइजंत (परह १, १) ।  
जाय देखो जाग (खाया १, १) ।  
जाय वि [जात] १ उत्पन्न, जो पैदा हुआ हो (ठा ६) । २ न. समूह, संघात, (दंस ४) । ३ भेद, प्रकार (ठा १०; निचू १६) । ४ वि. प्रवृत्त (श्रीप) । ५ पुं. लड़का, पुत्र (भग ६, ३३; सुपा २७६) । ६ न. बच्चा, संतान; 'जायं तीए जइ कहवि जायए पुन्न-जोगेण' (सुपा ५६८) । ७ जन्म, उत्पत्ति (खाया १, १) । ८ कम्म न [कर्मन्] १ प्रवृत्ति-कर्म (खाया १; १) । २ संस्कार-विशेष (वमु) । ३ तैय पुं [तेजस्] अग्नि, वहि (सम ५०) । ४ निद्रुया स्त्री [निद्रुता] मृत-वत्सा स्त्री (विपा १, २) । ५ वि. मूअ वि [मूक] जन्म से मूक (विपा १, १) । ६ रुव न [रुप] १ सुवर्ण, सोना (श्रीप) । २ रुव्य, चाँदी (उत्त ३५) । ३ सुवर्ण-निर्मित (सम ६५) । ४ वेय पुं [वेदस्] अग्नि, वहि (उत्त १२) ।

जाय वि [यात] गत, गया हुआ (सुअ १, ३, १) । २ प्राप्त (सुअ १, १०) । ३ न. गमन, गति (आचा) ।  
जाय पु. [जात] गीतार्थ, विद्वान् जैन मुनि (पव—गाया २४) ।  
जायग वि [याचक] १ माँगनेवाला । २ पुं. भिक्षुक (श्रा २३; सुपा ४१०) ।  
जायग वि [याजक] यज्ञ करानेवाला (उत्त २५, ६) ।  
जायण न [याचन] याचना, प्रार्थना (श्रा १४; प्रति ६१) ।  
जायण न [यातन] कदर्थन, पीड़न (परह १, २) ।  
जायणया स्त्री [याचना] याचना, प्रार्थना जायणा माँगना (उप पृ ३०२; सम ४०; स २६१) ।  
जायणा स्त्री [यातना] कदर्थना, पीड़ना (परह १, १) ।  
जायणी स्त्री [याचनी] प्रार्थना की भाषा (ठा ४, १) ।  
जायव पुं स्त्री [यादव] यदुवंश में उत्पन्न, यदुवंशीय (खाया १, १६; पउम २०, ५६) ।  
जाया स्त्री [यात्रा] निर्वाह, गुजारा, वृत्ति । १ माय वि [मात्र] जितने से निर्वाह हो सके उत्तना; 'साहुस्स त्रित्ति वीरा जाया मायं च श्रोमं च (पिड ६४३) ।  
जाया स्त्री [जाया] स्त्री, औरत, (गा ६; सुपा ३८६) ।  
जाया देखो जना (परह २, ४; सुअ १, ७) ।  
जाया स्त्री [जाता] चमरेन्द्र आदि इन्द्रों की बाह्य परिपत् (भग; ठा ३, २) ।  
जायाइ पुं [यायाजिन्] यज्ञ-कर्ता, याजक, यज्ञ करानेवाला (उत्त २५, १) ।  
जार पुं [जार] १ उपपत्ति, यार (हे १, १७७) । २ मणि का लक्षण-विशेष (जीव ३) ।  
जारिच्छ वि [याटक्ष] ऊपर देखो (प्रामा) ।  
जारिस वि [याटश] जैसा, जिस तरह का (हे १, १४२) ।  
जारिक्कण न [जारिक्कण] गोत्र-विशेष, जो वाशिष्ठ गोत्र की एक शाखा है (ठा ७) ।  
जाल सक [ज्वालय] जलाना, दग्ध करना; 'तो जलियजलराजालावलीनु जालेमि निपदेहं' (महा) । संक. जालेवि (महा) ।

जाल न [जाल] ? समूह, संघात (सुर ४, १३५; स ४४२) । २ माला का समूह, दामनिकर (राय) । ३ कारीगरीवाले छिद्रों से युक्त गृहांश, गवाक्ष-विशेष, झरोखा (श्रौप; राया १, १) । ४ मछली वगैरह पकड़ने का जाल, पाश-विशेष (परह १, १) । ४ मछली वगैरह पकड़ने की जाल, पाश-विशेष (परह १, १, ४) । ५ पैर का ग्राम्भूषण-विशेष, कड़ा (श्रौप) । °कडम पुं [कटक] ? सच्छिद्र गवाक्षों का समूह । २ सच्छिद्र गवाक्ष-समूह से श्रलंकृत प्रदेश (जीव ३) । °घरग न [गृहक] सच्छिद्र गवाक्षवाला मकान (राय; राया १, २) । °पंजर न [पंजर] गवाक्ष (जीव ३) । °हरग देखो °घरग (श्रौप) ।

जाल पुं [ज्वाल] ज्वाला, अग्नि-शिक्षा, आग की लपट (सुर ३, १८८; जी ६) ।

जालंतर न [जालन्तर] सच्छिद्र गवाक्ष का मध्यभाग (सम १३७) ।

जालंधर पुं [जालन्धर] ? पंजाव का एक स्वनाम-ख्यात शहर (भवि) । २ न. गोत्र-विशेष (कप्प) ।

जालंधरायण न [जालन्धरायण] गोत्र-विशेष (आचा २, १५) ।

जालग देखो जाल = जाल (परह १, १; ५; श्रौप; राया १, १) ।

जाला पुं [जालक] द्विन्द्रिय जीव की एक जाति, मकड़ी (उत्त ३६, १३०) ।

जालयडिआ ली [दे] चन्द्रशाला, अट्टालिका, अटारी (दे ३, ४६) ।

जालय देखो जाल = जाल (गडड) ।

जालवगी ली [दे] संवाद, सन्हाल, लवर गुजराती में 'जाळवण' (सिरि ३८५) ।

जाला ली [ज्वाला] ? अग्नि की शिक्षा (आचा; सुर २, २४६) । २ नवम चक्रवर्ती की माता (सम १५२) । ३ भगवान् चन्द्रप्रभ की शासनदेवी (संति ६) ।

जाला अ [यदा] जिस समय, जिस काल में; 'जाला जायति गुणा, जाला ते सहिअएहि घेपंति' (हे ३, ६५) ।

जालाउ पुं [जालायुष्] द्विन्द्रिय जन्तु-विशेष, मकड़ी (राज) ।

जालाव सक [ज्वालय] जलाना; दाह देना । वक्र. जालावंत (महानि ७) ।

जालाविअ वि [ज्वालित] जलाया हुआ (सुपा १८६) ।

जालि पुं [जालि] ? राजा श्रेणिक का एक पुत्र, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (अनु १) । २ श्रीकृष्ण का एक पुत्र, जिसने दीक्षा ले कर शत्रुघ्नय पर्वत पर मुक्ति पाई थी (अंत १४) ।

जालिय पुं [जालिक] जाल-जीवि, वायुरिक, बहेलिया, चिड़ीमार (गडड) ।

जालिय वि [ज्वालित] जलाया हुआ, सुलगाया हुआ (उव; उप ५६७ टी) ।

जालिया ली [जालिका] ? कब्बुक (परह १, ३—पत्र ४४; गडड) । २ वृत्त (राज) ।

जालुगाल पुं [जालोद्गाल] मछली पकड़ने का साधन-विशेष (अभि १८३) ।

जाव देखो जावइअ (आचा २, २, ३, ३) ।

जाव सक [यापय] ? गमन करना, गुजारना । २ बरतना । ३ शरीर का प्रतिपालन करना । जावइ (आचा) । जावइ (हे ४, ४०) जावए (सुअ १, १, ३) ।

जाव अ [यावत्] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ परिमाण । २ मर्यादा । ३ श्रवधारण, निश्चय; 'जावदयं परिमाणे मज्जाया-एवधारणे चेइ' (विसे ३५१६; राया १, ७) । °जीव ली न [°जीव] जीवन पर्यन्त (आचा) । ली. °वा (विसे ३५१८; श्रौप) । °जीविय वि [°जीविक] यावज्जीव-संबन्धी (स ४४१) । देखो जावं ।

जाव पुं [जाप] मन ही मन बार बार देवता का स्मरण, मन्त्र का उच्चारण (सुर ६, १७४; सुपा १७१) ।

जावइ पुं [दे] वृक्ष-विशेष (परह १—पत्र ३४) ।

जावइअ वि [यावत्] जितना; 'जावइया वयणपहा' (सम १४४; भत्त ६४) ।

जावइ ली [जातिपत्री] ? कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६८; सुव ३६, ६८) । २ शुद्ध वनस्पति की एक जाति (परह १—पत्र ३४) ।

जावइय पुं [जातिपत्रीक] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६८) ।

जावं देखो जाव (पउम ६८, ५०) । °ताव अ [°तावत्] ? गणित-विशेष । २ गुणाकार (ठा १०) ।

जावंत देखो जावइअ (भग १, १) ।

जावय देखो जावय = यापक (दसनि १) ।

जावण न [यापन] ? विताना, गुजारना । २ दूर करना, हटाना (उप ३२० टी) ।

जावणा ली [यापना] ऊपर देखो (उप ७२८ टी) ।

जावणिज्ज वि [यापनीय] ? जो बीताया जाय, गुजारने योग्य । २ शक्ति-युक्त; 'जावणिज्जाए णिसीहियाए' (पडि) । °तंत न [°तन्त्र] ग्रन्थ-विशेष (वर्म २) ।

जावय वि [यापक] ? बीतानेवाला । २ पुं. तर्क-शास्त्र-प्रसिद्ध काल-क्षेपक हेतु (ठा, ४, ३) ।

जावय वि [जापक] जीतनेवाला, 'जिणाणं जावयाणं' (पडि) ।

जावय पुं [यावक] श्रलक्तक, श्रलता, लाल का रंग (गडड; सुपा ६६) ।

जावसिय वि [यावसिक] ? धान्यसे गुजारा करनेवाला (बृह १) । २ धास-वाहक (श्रौप २३८) ।

जाविय वि [यापित] बीताया हुआ (राया १, १७) ।

जास पुं [जाप] पिशाच-विशेष (राज) ।

जासुमण | पुं [जपासुमनस्] ? जपा जासुमिण का वृक्ष, पुष्पप्रदान (परह १, जासुयण | राया १, १) । २ न. जपा का फूल (राया १, १; कप्प) ।

जाहग पुं [जाहक] जन्तु-विशेष, जिसके शरीर में काटि होते हैं, साही या साहिल (परह १, १; विसे १४५४) ।

जाहस्थ न [याथाय्य] सत्यपन, वास्तविकता (विसे १२७६) ।

जाहासंख देखो जहा-संख; 'जाहासंखमिमीणं नियकज्जं साहुवाओ य' (उप १७६) ।

जाहे अ [यदा] जिस समय, जब, (हे ३, ६५; महा; गा ६८) ।

जि (अप) देखो एव=एव (हे ४, ४२०; कुमा; वजा १४) ।

जिअ अक [जीव] जीना, प्राण-धारण करना । जिअइ, जिअउ (हे १, १०१) । वकू. जिअंत (गा ६१७) ।

जिअ पुं [जीव] आत्मा, प्राणी, चेतन (सुर २, ११३; जी ६; प्राप् ११४, १३०) ।  
°लोअ पुं [°लोक] संसार, दुनियां (सुर १२, १४३) ।

जिअ न [जित] जीत, जय (प्राक् ७०) ।  
°गासि वि [°काशिन] जीत से शोभनेवाला विजेता (सम्मत् २१७) । °सत्तु पुं [°शत्रु] अंग-विद्या का जानकार दूसरा छद्म-पुरुष (विचार ४७३) ।

जिअ वि [जित] १ जीता हुआ, पराभूत, अभिभूत (कुमा; सुर ३, ३२) । २ परिचित (विसे १४७२) । °प्प वि [°त्तमन्] जितेन्द्रिय, संयमी (सुपा २७६) । °माणु पुं [°भानु] राजस-वंश का एक राजा, एक लंका-मति (पउम ५, २५६) । °सत्तु पुं [°शत्रु] १ भगवान् अजितनाथ का पिता (सम १५०) । २ रूप-विशेष (महा; विपा १, ५) । °सेण पुं [°सेन] १ जैन आचार्य-विशेष । २ रूप-विशेष । ३ एक चक्रवर्ती राजा । ४ स्वनाम-ख्यात एक कुलकर (राज) । °रि पुं [°रि] भगवान् संभवनाथजी का पिता (सम १५०) ।

जिअंती ली [जीवन्ती] वल्ली-विशेष (पएण १) ।

जिअव वि [जीतयत्] जय-प्राप्त (पएह १, १) ।

जिईदिय } वि [जितेन्द्रिय] इन्द्रियों को  
जिईदिय } वश में रखनेवाला, संयमी  
(पउम १४, ३६; हे ४, २८७) ।

जिथ सक [त्रा] सूचना, गन्ध लेना । कू. जिथगिज्ज (कप्प) ।

जिथण न [त्राण] सूचना, गन्ध-ग्रहण (स ५७७) ।

जिथणा ली [त्राण] ऊपर देखो (शोध ३७६) ।

जिथिअ वि [त्रात] सूँघा हुआ (पाथ) ।

जिडइ पुं [दे] कन्दुक, गेंद; जिडहोडिआ-इरमण (पव ३८; धर्म २) ।

जिडुह पुं [दे] कन्दुक, गेंद (पव ३८) ।

जिभ } देखो जंभाय । जिभ (अनि  
जिभाअ } २४१) । वकू. जिभाअंत (वे ११, ३०) ।

जिभिया ली [जुम्भा] जम्माई, जून्मण-मुख विकास (सुपा ५८३) ।

जिगीसा ली [जिगीषा] जय की इच्छा (कुप्र २७८) ।

जिग्व देखो जिघ । जिग्वइ (निचू १) ।

जिग्विअ वि [दे] आत, सूँघा हुआ (दे ३, ४६) ।

जिच } देखो जिण = जि ।  
जिचमाण }

जिट्ट वि [ज्येष्ठ] १ महान्, वृद्ध, बड़ा (सुपा २३४; कम्म ४, ८६) । २ श्रेष्ठ, उत्तम । ३ पुं. बड़ा भाई; जिट्टं व कणिट्टं पि हुं (धर्म २) । °मूइ पुं [°भूति] जैन साधु-विशेष (ती १७) । °मूली ली [°मूली] ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा (इक) ।

जिट्ट पुं [ज्येष्ठ] मास-विशेष, जेठ (राज) ।

जिट्टा ली [ज्येष्ठा] १ भगवान् महावीर की पुत्री । २ भगवान् महावीर की भगिनी (विसे २३०७) । ३ नक्षत्र-विशेष (जं १) । देखो जेट्टा ।

जिट्टाणी ली [ज्येष्ठा] बड़े भाई की पत्नी, जिठानी या जेठानी (सुपा ४८७) ।

जिट्टिणी ली [ज्येष्ठी] जेठ मास की अमावस (सट्ठि ७८ टी) ।

जिण सक [जि] जीतना, वश करना ।

जिणइ (हे ४, २४१; महा) । कर्म. जिणि-ज्जइ, जिण्वइ (हे ४, २४२) । वकू. जिणंत, जिणयंत (पि ४७३; पउम १११, १७) ।

कवकू. जिण्यमाण (उत्त ७, २२) । संकू. जिणित्ता, जिणिऊण, जिणेऊण, जेऊण, जेऊआण (पि; हे ४, २४१; पइ; कुमा) ।

हेकू. जिणिउं, जेउं (सुर १, १३०; रंभा) । कू. जिच, जिणेयव्व, जेयव्व (उत्त ७, २२; पउम १६, १६; सुर १४, ७६) ।

जिण पुं [जिन] १ राग आदि अन्तरंग शत्रुओं को जीतनेवाला, अर्हन् देव, तीर्थंकर (सम १; ठा ४, १; सम्म १) । २ बुद्ध देव, बुद्ध भगवान् (दे १, ५) । ३ केवल-ज्ञानी,

सर्वज्ञ (पएण १) । ४ चौदह पूर्व ग्रन्थों का जानकार (उत्त ५) । ५ जैन साधु-विशेष, जिनकल्पी मुनि । ६ अथवि-ज्ञान आदि अतीन्द्रिय ज्ञानवाला (पंचा ४; ठा ३, ४) । ७ वि. जीतनेवाला (पंचा ३, २०) । °इंद पुं [°इन्द्र] अर्हन् देव (सुर ४, ८१) । °कप्प पुं [°कल्प] एक प्रकार के जैन मुनियों का आचार, चारित्र-विशेष (ठा ३, ४; वृह १) । °कट्पिय पुं [°कल्पिक] एक प्रकार का जैन मुनि (शोध ६६६) । °किरिया ली [°किरिया] जिनदेव का वतलाया हुआ यमनिष्ठान (पंचव १) । °वर न [°गृह] जिन-मन्दिर (भग २, ८; एाया १, १६—पव २१०) । °चंद्र पुं [°चन्द्र] १ जिनदेव, अर्हन् देव (कम्म ३, १; अजि २६) । २ स्वनाम-ख्यात जैन आचार्य विशेष (गु १२; सण) । °जत्ता ली [°यात्रा] अर्हन् देव की पूजा के उपलक्ष में किया जाता उत्सव-विशेष, रथ-यात्रा (पंचा ७) । °णाम न [°नामन्] कर्म-विशेष जिसके प्रभाव से जीव तीर्थंकर होता है (राज) । °दत्त पुं [°दत्त] १ स्वनाम-प्रसिद्ध जैनाचार्य-विशेष (गण २६; सार्ध १५०) । २ स्वनाम-ख्यात एक जैन श्रेष्ठी (पउम २०, ११६) । °द्वय न [°द्वय] जिन-मन्दिर-सम्बन्धी घनादि वस्तु; 'बडहंती जिणद्वयं तिरवगरत्तं लहइ जीवो' (उप ४१८; दंस १) । °दास पुं [°दास] १ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन उपासक (आचू ६) । २ स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि और ग्रन्थकार, निशीव-सूत्र का चूँलिकार (निचू २०) । °देव पुं [°देव] १ अर्हन् देव (गु ७) । २ स्वनाम-प्रसिद्ध जैनाचार्य (आक) । ३ एक जैन उपासक (आचू ४) । °धम्म पुं [°धम्म] जिनदेव का उपदिष्ट धर्म, जैन धर्म (ठा ५, २; हे १; १८७) । °नाह पुं [°नाथ] जिनदेव, अर्हन् देव (सुपा २३५) । °पडिमा ली [°प्रतिमा] अर्हन् देव की मूर्ति (एाया १, १६—पव २१०; राय; जीव ३); 'जिएणपडिमादंसणेण पडिबुद्धं' (दसचू २) । °पवयण न [°प्रवचन] जैन आगम, जिनदेव-प्रणीत शास्त्र (विसे १३५०) । °पसरथ वि [°प्रशस्त] तीर्थंकर-भाषित, जिनदेव-कथित (पएह २,

५) । °पहु पुं [°प्रभु] जिन-देव, अहंन देव (उप ३२० टी) । °पाडिहेर न [°प्रातिहार्य] जिन-देव की अहंता-सूचक देव-कृत अशोक वृक्ष आदि आठ बाह्य विभूतियां, वे ये हैं—१ अशोक वृक्ष, २ सुर-कृत पुष्प-वृष्टि, ३ दिव्य-ध्वनि, ४ चामर, ५ सिंहासन, ६ भामण्डल, ७ दुन्दुभि-नाद, ८ छत्र (दंस ?) । °पालिय-पुं [°पालिन] चम्पा नगरी का निवासी एक श्रेष्ठि-पुत्र (साया १, ६) । °विच न [°विम्ब] जिन-मूर्ति, जिन-देव की प्रतिमा (पडि: पंचा ७) । °भड पुं [°भट] स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन आचार्य, जा सुप्रसिद्ध जैन ग्रन्थकार श्रीहरिन्द्र सूरि के गुरु थे (साथ ५८) । °भद्र पुं [°भद्र] स्वनाम-प्रसिद्ध जैन आचार्य और ग्रन्थकार (आव ४) । °भवण न [°भवन] अहंन मन्दिर (पंचव ४) । °मय न [°मत] जैन दर्शन (पंचा ४) । °माया स्त्री [°माय] जिन-देव की जननी (सम १५१) । °सुदा स्त्री [°सुद्रा] जिन-देव जिस तरह से कायादर्शन में रहते हैं उस तरह शरीर का विन्यास, आसन-विशेष (पंचा ३) । °यंद देखो °चंद (सुर १, १०; सुपा ७६) । °रक्षित्य पुं [°रक्षित] स्वनाम-ख्यात एक साथवाह-पुत्र (साया १, ६) । °वइ पुं [°पति] जिन-देव, अहंन-देव (सुपा ८६) । °वई स्त्री [°वाच्] जिन-देव की वाणी (वृह १) । °वयण न [°वचन] जिन-देव की वाणी (ठा ६) । °वयण न [°वदन] जिन-देव का मुख (श्रीप) । °वर पुं [°वर] अहंन देव (पउम ११, ४; अजि १) । °वरिद पुं [°वरेन्द्र] अहंन देव (उप ७७६) । °वलह पुं [°वल्लभ] स्वनाम-ख्यात एक जैन आचार्य और प्रसिद्ध स्तोत्र-कार (लहुग १७) । °वसह पुं [°वृषभ] अहंन देव (राज) । °सकहा स्त्री [°सक्रिय] जिन-देव की अस्त्य (मग १०, ५) । °सासन न [°शासन] जैन दर्शन (उत्त १८; सूत्र १, ३, ४) । °हंस पुं [°हंस] एक जैन आचार्य (दं ४७) । °हर देखो °वर (पउम ११, ३; सुपा ३६१; महा) । °हरिस पुं [°हर्ष] एक जैन मुनि (रण ६४) । °ययण न [°यतन] जिन-देव का मन्दिर (पंचव ४) ।

जिणंद देखो जिणिद; 'सबे जिणंदा सुरविद-वंदा' (पडि: जी ४८) । जिणकपि पुं [जिनकल्पिन] जैन मुनि का एक भेद (पंचा १८, ६) । जिणग न [जयन] जय, जीत (रण) । जिणपह पुं [जिनप्रभ] एक जैन आचार्य (ती ५) । जिणिद पुं [जिनेन्द्र] जिन भगवान्, अहंन देव (प्रासू ५२) । °गिह न [°गृह] जिन-मन्दिर (सुर ३, ७२) । °चंद पुं [°चन्द्र] जिन-देव (पउम ६५, ३६) । जिणिय वि [जित] पराभूत, वशोक्त (सुपा ५२२; रण २७) । जिणिसर देखो जिणेसर (सम्मत ७६; ७७) । जिणिसर देखो जिणेसर (पंचा १६) । जिणुत्तम पुं [जिनोत्तम] जिन-देव (प्रजि ४) । जिणंद देखो जिणिद (चेइय ६०) । जिणेस पुं [जिनेश] जिन भगवान्, अहंन देव (सुपा २६०) । जिणेसर पुं [जिनेश्वर] ? जिन देव, अहंन देव (पउम २, २३) । २ विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के स्वनाम-ख्यात एक प्रसिद्ध जैन आचार्य और ग्रन्थकार (सुर १६, २३६; साथ ७६; तु ११) । जिण वि [जीर्ण] ? पुराना, जर्जर (हे १, १०२; चार ४६ प्रासू ७६) । २ पचा हुआ; 'जिएणे भोग्रणमत्ते' (हे १, १०२) । ३ वृद्ध; वृद्धा (वृह १) । सेट्टि पुं [श्रेष्ठिन] ? पुराना सेठ । २ श्रेष्ठि पद से च्युत (आव ४) । जिण (अप) देखो जिअ = जित (पिग) । जिणगासा स्त्री [जिज्ञासा] जानने की इच्छा (पंचा ३) । जिणिअ } (अप) देखो जिणिय (पिग) । जिणोअ } जिणोअभवा स्त्री [दे] दूती, दूत (वास ३, ४६) । जिणहु वि [जिण्णु] ? जित्वर, जीतनेवाला, विजयो (प्रासू) । २ पुं. अजुंन, मध्यम पांडव (गउड) । ३ विष्णु, श्रीकृष्ण । ४ सुयं, रवि । ५ इन्द्र, देव-नायक (हे २, ७५) ।

जित देखो जिअ = जित (महा; सुपा ३६५; ६४३) । जिअिअ } वि [यावत्] जितना (हे २; जिअिल } १५६; पड) । जिअुल (अप) ऊपर देखो (कुमा) । जिअ (अप) अ [यथा] जैसे, जिस तरह से (हे ४, ४०१) । जिअ देखो जिण (सुपा ६) । जिअिसिय वि [जिअिसित] जानने के लिए इष्ट, जानने के लिए चाहा हुआ (भास ७५) । जिअुद्वार पुं [जीर्णोद्वार] पुराने और टूटे-फूटे मन्दिर आदि को सुधारना (सुपा ३०६) । जिअम पुं [जिअ] एक तरक-स्थान (देवेन्द्र ६; २६) । जिअमा स्त्री [जिअमा] जीम, रसना (परह २, ५; उप ६८६ टी) । जिअिभंदिय न [जिअिभंदिय] रसनेन्द्रिय, जीम (ठा ४, २) । जिअिभया स्त्री [जिअिभया] ? जीम । २ जीम के आकारवाली चीज (जं ४) । जिअ सक [जिअ, मुज] जीमना, भोजन करना, खाना । जिअइ (हे ४, ११०; पड) । जिअ (अप) देखो जिअ (पड; भवि) । जिअण न [जिमन, भोजन] जीमन, भोजन (था १६; चैत्य ५६) । जिअण न [जिमन] जिमाना, भोज (वर्मवि ७०) । जिअिअ वि [जिमित, मुक्त] ? जिसने भोजन किया हुआ हो वह (पउम २०, १२७; पुप ३५; महा) । २ जो खाया गया हो वह, भक्षित (दे ३, ४६) । जिअम देखो जिअ = जिम् । जिअमइ (हे ४, २३०) । जिअ पुं [जिअ] ? मेघ-विशेष, जिसके वरसने से प्रायः एक वर्ष तक जमीन में चिकनापन रहती है (ठा ४, ४—पत्र २७०) । २ वि. कुटिल, कपटी, मायावी (सम ७१) । ३ मन्द, अलस (जं २) । ४ न. माया, कपट (वव ३) । जिअ न [जैअ] कुटिलता, वक्रता, माया, कपट (सम ७१) ।



जिव देखो जीवः 'भायाइ अहं भणिएओ कायंवा  
वच्छ जिवदया तुणए' (धर्मवि ५) ।

जिवे } (अप) देखो जिव (कुमाः पड्; हे  
जिह } ४, ३३७) ।

जिहा देखो जीहा (पड्) ।

जीअ देखो जीव = जीव् । जीअइ (ग १२४,  
हे १, १०१) । वृ. जीअंत (से ३, १२;  
गा ८१६) ।

जीअ देखो जीव = जीव (गउड) । ५ पानी,  
जल (से २, ७) ।

जीअ देखो जीविअ (हे १, २७१; प्राप्रः सुर  
२, २३०) ।

जीअ न [जीत] ? आचार, रिवाज, प्रथा, हदि  
(श्रौपः राय, सुपा ४३) । २ प्रायश्चित से  
सम्बन्ध रखनेवाला एक तरह का रिवाज,  
जैन सूत्रों में उक्त रीति से भिन्न तरह के  
प्रायश्चित्तों का परम्परागत आचार (ठा ५,  
२) । ३ आचार-विशेष का प्रतिपादक ग्रन्थ  
(ठा ५, २; वव १) । ४ मर्यादा, स्थिति,  
व्यवस्था (एदि) । °कल्प पुं [°कल्प] ?  
परम्परा से आगत आचार । २ परम्परागत  
आचार का प्रतिपादक ग्रन्थ (पंचा ६; जीत) ।  
°कल्पिय वि [°कल्पिक] जीत कल्पवाला  
(ठा. १०) । °धर वि [°धर] ? आचार-  
विशेष का जानकार । २ स्वनाम-न्यात एक  
जैनाचार्य (एदि) । °व्यवहार पुं [°व्यवहार]  
परम्परा के अनुसार व्यवहार (धर्म २;  
पंचा १६) ।

जीअण देखो जीवण (नाट-चैत २५८) ।

जीअव वि [जीवितवत्] जीवितवाला,  
श्रेष्ठ जीवनवाला (पएह १, १) ।

जीआ छी [ज्या] ? वनप की डोरी (कुमा) ।  
२ पृथिवी, भूमि । ३ माता, जननी (हे २,  
११५; षड्) ।

जीण न [दे. अजिन] जीन, अश्व की पीठ  
पर विद्यया जाता चर्ममय आसन (पव ८४) ।

जीमूअ पुं [जीमूत] ? मेघ, वर्षा (पाप्रः  
गउड) । २ मेघ-विशेष, जिसके बरसने से  
जमीन दस वर्ष तक चिकनी रहती है  
(ठा ४, ४) ।

जीरं देखो जर = ज् ।

जीरण न [जीर्ण] ? अन्न पाक । २ वि.  
पुराना, पचा हुआ 'अजीरण' (पिंड २७) ।

जीरय न [जीरक] जीरा, मसाला-विशेष  
(सुर १, २२) ।

जीरय सक [जीरय्] पचाना । जीरवइ  
(कुप्र २६६) ।

जीव अक [जीव्] ? जीना, प्राण धारण  
करना । २ सक. आश्रय करना । जीवइ  
(कुमा) । वृ. जीवंत, जीवमाण (विपा  
१, ५; उप ७२८ टी) । हे. जीविउं (प्राचा) ।  
सं. जीविअ (नाट) । वृ. जीविअव्य,  
जीवणिल्ल (सूत्र १, ७) । प्रयो. जीवावेहि  
(पि ५५२) ।

जीव पुंन [जीव] ? आत्मा, चेतन, प्राणी  
(ठा १, १; जी १; सुपा २३५); 'जीवाइ'  
(पि ३६७) । २ जीवन, प्राण-धारण;  
'जीवोत्ति जीवणं पाणधारणं जीवियंति  
पञ्जाया' (वित्से ३५०८; सम १) । ३ पुं.  
वृहस्पति, सुर-गुरु (सुपा १०८) । ४ बल,  
पराक्रम (भग २, १) । ५ देखो जीअ =  
जीव । °काय पुं [°काय] जीव-राशि,  
जीव-समूह (सूत्र १, ११) । °गाह न  
[°गाह] जिन्दे को पकड़ना (खाया १, २) ।  
°णिक्राय पुं [°निक्राय] जीव-राशि (ठा  
६) । °त्थिक्राय पुं [°त्थिक्राय] जीव-  
समूह, जीव-राशि (भग १३, ४; अणु) । °दय  
वि [°दय] जीवित देनेवाला (सन १) ।  
°दया छी [°दया] प्राण-दया, दुःखी जीव  
का दुःख से रक्षण (महानि २) । °देव पुं  
[°देव] स्वनाम-न्यात प्रसिद्ध जैन आचार्य  
और ग्रंथकार (सुपा १) । °पएस पुं  
[°प्रदेशजीव] अन्तिम प्रदेश में ही जीव की  
स्थिति को माननेवाला एक जैनाभास दार्शनिक  
(राज) । °पएसिय पुं [°प्रादेशिक]  
देखो पूर्वोक्त अर्थ (ठा ७) । °लोग, °लोक  
पुं [°लोक] ? जीव-जाति, प्राण-लोक,  
जीव-समूह (महा) । °विजय न [°विचय]  
जीव के स्वरूप का चिन्तन (राज) । °विभक्ति  
छी [°विभक्ति] जीव का नेद (उत्त ३६) ।  
°वुड्ढिय न [°वृद्धिक] अनुज्ञा, संमति,  
अनुमति (एदि) ।

जीव न [जीव] सात दिन का लगातार  
उपवास (संशोध ५८) । °विस्तिट्ट न  
[°विशिष्ट] वही अर्थ (संशोध ५८) ।

जीवजीव पुं [जीवजीव] ? जीव-बल, आत्म-  
पराक्रम (भग २, १) । २ चकोर-पत्नी,  
चक्रवा (राज) ।

जीवंत देखो जीव = जीव् । °मुक्क पुं [°मुक्क]  
जीवन्मुक्त, जीवन-दशा में ही संनार-बन्धन से  
मुक्त महात्मा (अच्यु ४७) ।

जीवंग पुं [जीवक] ? पक्षि-विशेष (उप  
५८०) । २ नृप-विशेष (तित्व) ।

जीवजीवंग पुं [जीवजीवक] चकोर पत्नी,  
चक्रवा (पएह १, १—पत्र ८) ।

जीवण न [जीवन] ? जीना, जिन्दगी (वित्से  
३५२१; पठम ८, २५०) । २ जीविका,  
आजीविका (स २२७; ३१०) । ३ वि.  
जिलानेवाला (राज) । °वित्ति छी [°वृत्ति]  
आजीविका (उप २६४ टी) ।

जीवमजीव पुं [जीवाजीव] चेतन और जड़  
पदार्थ (आवन) ।

जीवन्मुक्त देखो जीवंत-मुक्क (उवर १६१) ।  
जीवयमई छी [दे] नृगों के आकर्षण के  
साधन-भूत व्याव-मृगी (दे ३, ४६) ।

जीवा छी [जीवा] ? वनप की डोरी (स  
३८४) । २ जीवन, जीना (वित्से ३५२१) ।  
३ क्षेत्र का विभाग-विशेष (सम १०४) ।

जीवाउ पुं [जीवातु] जिलानेवाला औपच,  
जीवनीपथ (कुमा) ।

जीवाविय वि [जीवित] जिलाया हुआ (उप  
७६८ टी) ।

जीवि वि [जीविन्] जीनेवाला (गां ८४७) ।

जीविअ वि [जीवित] ? जो जिन्दा हो ।  
२ न. जीवित, जीवन, जिन्दगी (हे १, २७१;  
प्राप्र) । °नाह पुं [°नाथ] प्राण-पति  
(सुपा ३१५) । °रिसिका छी [°रिसिका]  
वनस्पति-विशेष (पएह १—पत्र ३६) ।

जीविआ छी [जीविका] ? आजीविका,  
निर्वाह-साधक वृत्ति (ठा ४, २; स २१६;  
खाया १, १) ।

जीविओसविय वि [जीवितोत्सविक]  
जीवन में उत्सव के तुल्य, जीवनोत्सव के  
समान (भग ६, ३३; राय) ।

जीविओसासिय वि [जीवितोच्छ्वासिक] जीवन को बढ़ानेवाला (भग ६, ३३) ।  
 जीविगा देखो जीविआ (स २१०) ।  
 जीह अक [लस्ज्] लजा करना, शरमाना ।  
 जीहइ (हे ४, १०३; पड्) ।  
 जीहा ली [जिह्वा] जीम, रसना (आचाः स्वप्न ७८) । ल वि [वत्] लम्बी जीमवाला (पउम ७, १२०; नमि ८; सुर २, ६२) ।  
 जीहाविअ वि [लज्जित] लजा-युक्त किया गया, लजाया गया (कुमा) ।  
 जु देखो जुज (कुमा) । कवक. जुजंत (सम्म १०७; से १२, ८७) ।  
 जु ली [युध्] लडाई, युद्ध; 'जुधि' वातिभए घेप्पइ' (विसे ३०१६) ।  
 जु अ [दे] निरन्धय-सूचक अव्यय (सा ४) ।  
 जुअ देखो जुग (से १२, ६०; इक; परह १, १) । ६ युग्म, जोड़ा, उभय (पिग; सुर २, १०२; मुपा १६०) ।  
 जुअ वि [युत] युक्त. संलग्न, सहित (दे १, ८१; सुर ४, ६४) ।  
 जुअ देखो जुव (गा २२८; कुमा; सुर २, १७७) ।  
 जुअइ ली [युवति] तरुणी, जवान ली (गडड; कुमा) ।  
 जुअंजुअ (अप) अ [युतयुत] जुदा-जुदा, अलग-अलग, मिल्न-मिल्न (हे ४, ४२२) ।  
 जुअण [दे] देखो जुअल = (दे) (पड्) ।  
 जुअणद्ध पुं [युगनद्ध] ज्योतिष प्रसिद्ध एक योग, जिसमें वैल के कंधे पर रखे हुए युग—जुआ या जुआठ की तरह चन्द्र श्रीर सूर्य तथा नक्षत्र अवस्थित होते हैं वह योग (सुज १२—पत्र २३३) ।  
 जुअय न [युनक] जुदा, पयक् (दे ७, ७३) ।  
 जुअरज्ज न [श्रीवराज्य] युवराज का भाव या पद, युवराज (स २६८) ।  
 जुअल न [युगल] १ युग्म, जोड़ा, उभय (पात्र) । २ वे दो पद्य जिनका अर्थ एक दूसरे से सापेक्ष हो (श्रा १४) ।  
 जुअल पुं [दे] युवा, तरुण, जवान (दे ३, ४७) ।

जुअलिअ वि [दे] द्विगुणित (दे ३, ४७) ।  
 जुअलिय देखो जुगलिय (राया १, १) ।  
 जुअली ली [युगली] युग्म, जोड़ा (प्राक ३८) ।  
 जुआण देखो जुवाण (गा ५७; २४६) ।  
 जुआरि ली [दे] जुआरि, अन्न-विशेष (मुपा ५४६; सुर १, ७१) ।  
 जुइ ली [युति] कान्ति, तेज, प्रकाश, चमक (श्रीप; जीव ३) । °म, °मंत वि [°मत्] तेजस्वी, प्रकाशशाली (स ६४१; पउम १०२, १५६) ।  
 जुइ ली [युति] संयोग, युक्तता (ठा ३, ३) ।  
 जुइ पुं [युगिन्] स्वनाम स्यात् एक जैन मुनि (पउम ३२, ५७) ।  
 जुईम वि [युतिमत्] तेजस्वी (सूत्र १, ६, ८) ।  
 जुउच्छ सक [जुगप्स्] घृणा करना, निन्दा करना । जुउच्छइ (हे ४, ४; पड्; से ५, ५) ।  
 जुउच्छिय वि [जुगुप्सित] निन्दित (निचू ४) ।  
 जुंगिय वि [दे] जाति, कर्म या शरीर से होन, जिसको संत्यास देने का जैन शास्त्रों में निषेध है (पुष्क १२५) ।  
 जुंगिय वि [दे] १ काटा हुआ (पिड ४४६) । २ दूषित (सिदि २२३) ।  
 जुंज सक [युज्] जोड़ना, युक्त करना । जुंजइ (हे ४, १०६) । वक. जुंजंत (श्रीव ३२६) ।  
 जुंजण न [योजन] जोड़ना, युक्त करना, किसी कार्य में लगाना (सम १०६) ।  
 जुंजणया } ली [योजना] १ ऊपर देखो  
 जुंजणा } (श्रीप; ठा ७) । २ करण-विशेष—मन, वचन और शरीर का व्यापार; 'मणव-यणकायकिरिया पन्नरसविहाउ जुंजणाकरण' (विसे ३३६०) ।  
 जुंजम [दे] देखो जुंजुमय (उप ३१८) ।  
 जुंजिअ वि [दे] बुभुक्षित, भूखा (राया १, १—पत्र ६६; ६८ टी) ।  
 जुंजुमय न [दे] हरा वृण-विशेष, एक प्रकार की हरी घास, जिसको पशु चाव से खाते हैं (स ४८७) ।

जुंजुलुड वि [दे] परिग्रह-रहित (दे ३, ४७) ।  
 जुग पुं [युग] १ काल-विशेष—सद्य, त्रैता, द्वापर और कलि ये चार युग (कुमा) । २ पांच वर्ष का काल (ठा २, ४—पत्र ८६; सम ७५) । ३ न. चार हाथ का यूप (श्रीप; परह १, ४) । ४ शकट का एक अंग, धुर, गाड़ी या हल खींचने के समय जो बैलों के कन्धे पर रखे जाते हैं (उप पृ १३६; उत २) । ५ चार हाथ का परिमाण (अणु) ।  
 ६ देखो जुअ = युग । °पवर वि [°प्रवर] युग-श्रेष्ठ (भग) । °पहाण वि [°प्रधान] १ युग-श्रेष्ठ (रंभा) । २ पुं. युग-श्रेष्ठ जैन आचार्य की एक उपाधि (पव २६४, युव १) । °वाहु पुं [वाहु] १ विदेह वर्ष में उत्पन्न स्वनाम-प्रसिद्ध एक जिनदेव (विपा २, १) । २ विदेह वर्ष का एक त्रि-खण्डाधिपति राजा (आचू ४) । ३ मिथिला का एक राजा (तित्य) । ४ वि. यूप या खंभा की तरह लम्बा हाथवाला, दीर्घ-वाहु (ठा ६) । °मच्छ पुं [°मत्स्य] की एक जाति (विपा १, ८—पत्र ८४ टी) °संवच्छर पुं [°संवत्सर] वर्ष-विशेष (ठा ५, ३) ।  
 जुगंतर न [युगान्तर] यूप-परिमित भूमि-भाग, चार हाथ जमीन (परह २, १) । °पलोयणा ली [°प्रलोकना] चलते समय चार हाथ जमीन तक दृष्टि रखना (भग) ।  
 जुगंधर न [युगन्धर] १ गाड़ी का काष्ठ-विशेष, शकट का एक अवयव (जं १) । २ पुं. विदेह वर्ष में उत्पन्न एक जिन-देव (आचू १) । ३ एक जैन मुनि (पउम २०, १८) । ४ एक जैन आचार्य (आवम) ।  
 जुगल न [युगल] युग्म, जोड़ा, उभय (अणु; राय) ।  
 जुगलि वि [युगलिन्] ली-पुरुष के युग्म रूप से उत्पन्न होनेवाला (रयण २२) ।  
 जुगलिय वि [युगलित] १ युग्म-युक्त, द्वन्द्व-सहित (जीव ३) । २ युग्म रूप से स्थित (राज) ।  
 जुगव वि [युगवन्] समय के उपद्रव से बाँजित (अणु; राय) ।  
 जुगव } अ [युगपत्] एक ही साथ,  
 जुगवं } एक ही समय में; 'कारणकज-

विभागो दीवपगानाणं जुगवज्जमेवि' (विसे ५३६ टी; श्रौप)।

जुगुच्छ देखो जुउच्छ । जुगुच्छद (हे ४, ४)।

जुगुच्छणया } व्री [जुगुप्सा] घृणा,  
जुगुच्छा } तिरस्कार (स १६७; प्राप्र)।

जुगुच्छिय वि [जुगुप्सित] घृणित, निन्दित (कुमा)।

जुगुग न [युग्य] ? वाहन, गाड़ी वगैरह यान (आचा)। २ शिविका, पुल्प-यान (सूत्र २, २; ङं २)। ३ गोल्ड देश में प्रसिद्ध दो हाथ का लम्बा-चौड़ा यान-विशेष, शिविका-विशेष (आया १, १; श्रौप)। ४ वि. यान-वाहक अश्व आदि। ५ भार-वाहक (ठा ४, ३)। १यरिया, १रिया व्री [१चर्या] वाहन की गति (ठा ४, ३—पत्र २३६)।

जुगुग वि [योग्य] लायक, उचित (विसे २६६२; सं ३१; प्राप् ५६; कुमा)।

जुगुग न [युग्म] युगल, द्वा, उभय (कुमा; प्राप्र; प्राप)।

जुजु देखो जुंज। जुजुद (हे ४, १०६, पड्)। जुजुंत देखो जु।

जुजुअ अक [युज्] लड़ाई करना, लड़ना। जुजुअ (हे ४, २१७; पड्)। वक्र. जुजुअंत, जुजुअमाण (सुर ६, २२२; २, ५१)। संक्र. जुजुअत्ता (ठा ३, २)। प्रयो. जुजुअवेद (महा)। वक्र. जुजुअवेत (महा)। क. जुजुअवेयव्य (उप पृ २२५)।

जुजुअ न [युद्ध] लड़ाई, संग्राम, समर (आया १, ८; कुमा; कप्पू; गा ६८४)। १इजुद्ध न [१ातियुद्ध] महायुद्ध, पुरुषों की बहत्तर कलाओं में एक कला (श्रौप)।

जुजुअग न [योधन] युद्ध लड़ाई (सुपा ५२७)।

जुजुअअ वि [युद्ध] ? लड़ा हुआ, जिसने संग्राम किया हो वह (से १५, ३७)। २ न. युद्ध, लड़ाई, संग्राम (स १२६)।

जुद्ध वि [जुष्ट] सेवित (प्राप्)।

जुद्ध न [दि] मूठ, असद्व्य; 'आ दृद्ध तुमं जुद्धं जंपसि' (वर्मवि १३३)।

जुडिअ वि [दि] आपस में जुटा हुआ, लड़ने के लिए एक दूसरे से भीड़ा हुआ; 'मुह्वेहि समं सुहवा जुडिया तह साइणावि साईहि' (उप ७२८ टी)।

जुण्ण वि [दे] विदग्ध, निपुण, दक्ष (दे ३, ४७)।

जुण्ण वि [जीर्ण] जूना, पुराना (हे १, १०२; गा ५३४)।

जुण्णदुग्ग न [जीर्णदुर्ग] नगर-विशेष, जो प्राजकल भी 'जूनागड' नाम से प्रसिद्ध है (ती २)।

जुण्ह देखो जोण्ह = ज्यौत्स्न (सुज १६)।

जुण्हा व्री [ज्योत्स्ना] चांदनी, चन्द्रिका, चन्द्र का प्रकाश (सुपा १२१; सण)।

जुत्त सक [युक्त्य्] जोतना। संक्र. जुत्तित्ता (ती १५)।

जुत्त वि [युक्त] ? संगत, उचित, योग्य (आया १, १६; चंद २०)। २ संयुक्त, जोड़ा हुआ, मिला हुआ, संबद्ध (सूत्र १, १, १; आचू)। ३ उद्युक्त, किसी कार्य में लगा हुआ (पव ६४)। ४ सहित, समन्वित (सूत्र १, १, ३; आचा)। १संखिज्ज न [१संख्येय] संख्या-विशेष (कम्म ४, ७८)।

जुत्ताणंतय पुंन [युत्तानन्तक] गणना-विशेष (अणु २३४)।

जुत्तासंखेज्जय देखो जुत्तासंखिज्ज (अणु २३४)।

जुत्ति व्री [युक्ति] ? योग, योजन, जोड़, संयोग (श्रौप; आया १, १०)। २ न्याय, उपपत्ति (उप ६५०; प्राप् ६३)। ३ साधन, हेतु (सूत्र १, ३, ३)। १ण वि [१] युक्ति का जानकार (श्रौप)। १सार वि [१सार] युक्ति-प्रदान, युक्त, न्याय-संगत, प्रमाण-युक्त (उप ७२८ टी)। १सुवण्ण न [१सुवण्ण] बनावटी सोना (द्वय १०, ३६)। १सेण पुं [१सेण] ऐरवत वर्ष के अष्टम जिन-देव (सम १५३)।

जुत्तिय वि [यौक्तिक] गाड़ी वगैरह में जो जोता जाय, 'जुत्तियवुरंगमाणं' (सुपा ७७)।

जुद्ध देखो जुजुअ = युद्ध (कुमा)।

जुजु देखो जुण्ण (सुर १, २४४)

जुन्हा देखो जुण्हा (सुपा १५७)।

जुण्ण देखो जुंज जुण्ण (हे ४, १०६)। जुण्णमि (कुमा)।

जुग्म न [युग्म] ? युगल, दोनों, उभय (हे २, ६२; कुमा)। २ पुं. सम राशि (श्रौप ४०७; ठा ४, ३—पत्र २३७)। १पाप्सिय वि [१प्रादेशिक] जन-संख्य प्रदेशों से निष्पन्न (नग २५, ४)।

जुग्म न [युग्म] परस्पर सापेक्ष दो पद्य (निरि ३६१)।

जुम्हं स [युष्मन्] द्वितीय पुरुष का वाचक सर्वनाम, 'जुम्हं दम्हं पयरणं' (हे १, २३६)।

जुर्म्मिद्ध वि [दि] गहन, निविड, साद्र; 'दुहजुम्मिद्धावत्थं' (दे ३, ४७)।

जुव पुं [युवन] जवान, तरुण (कुमा)। १राथ पुं [१राज] गद्दी का वारिस (उत्तराधिकारी) राजकुमार, नाबी राजा (सुर २, १७५; अग्नि ८२)।

जुवइ व्री [युवति] तरुणी, जवान व्री (हे १, ४; श्रौप; गउड; प्राप् ६३; कुमा)।

जुवंगव पुं [युवगव] तरुण वैत (आचा २, ४, २)।

जुवरज्ज न [यौवराज्य] ? युवराजपन (उप २११ टी; सुर १६, १२७)। २ राजा के मरने पर जब तक युवराज का राज्याभिषेक न हुआ हो तबतक का राज्य (आचा २, ३, १)। ३ राजा के मरने पर और युवराज के राज्याभिषेक हो जाने पर भी जबतक दूसरे युवराज की नियुक्ति न हुई हो तबतक का राज्य (वृह १)।

जुवल देखो जुगल (स ४७८; पउम ६५, २३)।

जुवलिय देखो जुगलिय (भक्त श्रौप)।

जुवाण देखो जुव (पउम ३, १४६; आया १, १; कुमा)।

जुवाणी देखो जुवई (पउम ८, १८४)।

जुव्वण } देखो जोव्वण (प्राप् ४६,  
जुव्वणत्त } ११६); 'पउमं चिय वासत्तं,  
'त्तो कुमरत्तजुव्वणत्ताई' (सुपा २४३)।

जुसिअ वि [जुष्ट] सेवित; 'पाएण देइ लोगो उवगारिसु परिचिए व जुसिए वा' (वा ४, ४)।

जुहिट्टिर } देखो जहिट्टिल (पिंगः उप  
जुहिट्टिल } ६४८ टीः णामा १, १६—  
जुहिट्टिल } पत्र २०८; २२६) ।

जुहु सक [हु] १ देना, अर्पण करना । २ हवन करना, होम करना । जूहुणामि (ठा ७—पत्र ३८१; पि ५०१) ।

जूअ न [चूत] जुआ, चूत (पात्र) । १ कर वि [कर] जुआरी, जुए का खिलाड़ी (सुपा ५२२) । २ कर वि [कार] वही पूर्वोक्त अर्थ (णामा १, १८) । ३ कारि वि [कारिन्] जुआरी (महा) । ४ कैलि वी [कैलि] चूत-लोड़ा (रयण ४८) । ५ खलय न [खलक] जुआ खेलने का स्थान (राज) । ६ कैलि देखो कैलि (रयण ४७) ।

जूअ पुं [यूप] १ जुआ, धुर, गाड़ी का अवयव-विशेष जो बैलों के कन्धे पर डाला जाता है, जुअइ (उा पृ १३६) । २ स्तम्भ-विशेषः 'सुप्रवहस्सं मुसल सहस्सं च उस्सवेह' (कप्प) । ३ यत्त-स्तम्भ (जं ३) । ४ एक महापाताल-कलश (पत्र २७२) ।

जूअअ पुं [दि] चातक पक्षी (दे ३, ४७) ।

जूअग पुं [यूपक] देखो जूअ = यूप (सम ७१) ।

जूअग पुं [यूपक] सन्ध्या की प्रभा और चन्द्र की प्रभा का मिश्रण (ठा १०) ।

जूआ वी [यूआ] १ जूँ, चीलड़, लटमल, क्षुद्र कौट-विशेष (जो १६) । २ परिमाण-विशेष, आठ लिखा का एक नाप (ठा ६; इक) । ३ सेज्जायर वि [शय्यातर] युकाओं को स्थान देनेवाला (मग १५) ।

जूआर वि [चूतकार] जुआरी, जुए का खिलाड़ी (रंभा; भवि, सुपा ४००) ।

जूआरि } वि [चूतकारिन्] जुआ खेलने-  
जूआरिअ } वाला, जुए का खिलाड़ी (द्र ४३, सुपा ४००; ४८८; स १५०) ।

जूअ देखो जुअ = युव । कृ. यूफियव्व (सिदि १०२५) ।

जूअ पुं [जूअ] कुन्तल, केश-कलाप (दे ४, २४; भवि) ।

जूअ न [यूप] लगातार छः दिनों का उपवास (संबोध ५८) ।

जूअय } पुं [यूपक] शुक्ल पक्ष की द्वितीया  
जूअय } आदि तीन दिनों में होती चन्द्र की कला और सन्ध्या के प्रकाश का मिश्रण (अणु १२०; पत्र २६८) ।

जूअ सक [गह] निंदा करना । जूरंति (सुय २, २, ५५) ।

जूअ अक [कृध] क्रोध करना, गुस्सा करना । जूरइ (हे ४, १३२; पड्) ।

जूअ अक [खिद] खेद करना, अफसोस करना । जूरइ (हे ४, १३२; पड्) । जूर (कुमा) । भवि. जूरिहिद (हे २, १६३) । वक्र. जूरंत (हे २, १६३) ।

जूअ अक [जू] १ झुरना, सूखना । २ सक. वष करना, हिंसा करना (राज) ।

जूअण न [जूअण] १ सूखना, झुरना । २ निन्दा, गहंण (राज) ।

जूअव सक [वञ्च्] ठगना, चंचना । जूरवइ (हे ४, ६३) ।

जूअवण वि [वञ्चन्] ठगनेवाला (कुमा) ।

जूअवण न [जूअण] झुराना, शोषण (मग ३, २) ।

जूआविअ वि [क्रोधित] क्रुद्ध किया हुआ, कोपित (कुमा) ।

जूअरिअ वि [खिद] खेद-प्राप्त (पाय) ।

जूअम्मिलय वि [दि] गहन, निविड, सांद्र (दे ३, ४७) ।

जूअ देखो जूर = कुव । जूल (गा ३५४) ।

जूअ देखो जूअ = चूत (णामा १, २—पत्र ७६) ।

जूअ } देखो जूअ = यूप (इक; ठा ४,  
जूअय } २) ।

जूअ देखो भूस (ठा २, १; कप्प) ।

जूअ पुंन [यूप] जूस, मूंग वगैरह का क्वाथ, कढी (शेष १४७; ठा ३, १) ।

जूअअ वि [दि] उत्तिसप्त, फेंका हुआ (पड्) ।

जूअणा वी [जोपणा] सेवा (कप्प) ।

जूअिय वि [जूअ] १ सेवित (ठा २, १) । २ क्षपित, क्षीण (कप्प) ।

जूअ न [यूथ] समूह, जत्वा (ठा १०; गा ५४८) । १ वइ पुं [पति] समूह का अवि-पति, युव का नायक (से ६, ६८; णामा १, १; सुपा १३७) । २ हिंवा पुं [धिप]

पूर्वोक्त ही अर्थ (गा ५४८) । ३ हिंवा पुं [धिपति] युव-नायक (उत्त ११) ।

जूअ न [यूथ] युग्म, युगल, जोड़ा (आचा २, ११, २) । १ काम न [काम] लगातार चार दिनों का उपवास (संबोध ५८) ।

जूअिय वि [यूथिक] युव में उत्पन्न (आचा २, २) ।

जूअियठाण न [यूथिकस्थान] विवाह-मण्डप वाली जगह (आचा २, ११, २) ।

जूअिया वी [यूथिका] लता-विशेष, जूही का पेड़ (परण १; पत्र ५३, ७६) ।

जूअी वी [यूथी] लता-विशेष, माधवी लता (कुमा) ।

जेअ १ पाद-पुंति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय (हे २, २१७) । २ अवधारण-सूचक अव्यय (उव) ।

जेअ वि [जेअ] जीतने योग्य (सम्मि ५०) ।

जेअ वि [जेअ] जीतनेवाला (सुअ १, ३, १, १; १, ३, १, २) ।

जेअ वि [जेअ] जीतनेवाला, विजेता (मग २०, २) ।

जेअआण

जेअं देखो जिण = जि ।

जेअण

जेअकार पुं [जयकार] 'जय-जय' आवाज स्तुतिः 'हुंति देवाण जेअकारो' (गा ३३२) ।

जेअ देखो जिअ = ज्येष्ठ (हे २, १७२; महा; उवा) ।

जेअ देखो जिअ = ज्येष्ठ (महा) ।

जेअ देखो जिअ (सम ८; आचू ४) । १ मूल पुं [मूल] जेठ मास (श्रौप; णामा १, १३) । २ मूली वी [मूली] जेठ मास की पूर्णिमा (सुज १०) ।

जेअमूली वी [ज्येष्ठामूली] १ जेठ मास की पूर्णिमा । २ जेठ मास की अमावस्या (सुज १०, ६) ।

जेअ देखो जइण = जैन (सम्मत्त ११७) ।

जेअ अ [जेअ] लक्षण-सूचक अव्यय, 'भमररत्तं जेअ कमलवण' (हे २, १८३; कुमा) ।

जेअ वि [यावत्] जितना । वी. ०त्ती (हास्य १३०) ।

जेत्त देखो जइत्त (पि ६१) ।  
जेत्तिअ } वि [ यावत् ] जितना (हे २,  
जेत्तिल } १५७; गा ७१; गउड) ।  
जेत्तिक (शौ) ऊपर देखो (प्राक ६५) ।  
जेत्तुल } (अप) ऊपर देखो (हे ४, ४३५) ।  
जेत्तुल }  
जेदह देखो जेत्तिअ (हे २, १५७; प्राप्र) ।  
जेम सक [ जिम्, मुज् ] भोजन करना ।  
जेमइ (हे ४, ११०; पड्) । वक. जेमंत  
(पउम १०३, ८५) ।  
जेम (अप) अ [ यथा ] जैसे, जिस तरह से  
(सुपा ३८३; भवि) ।  
जेमण } न [ जेमन ] जीमंत, भोजन (श्रीव  
जेमणग } ८८ श्रीप) ।  
जेमणय न [ दे ] दक्षिण अंग, गुजराती में  
'जमणु' (दे ३, ४८) ।  
जेमणी स्त्री [ जेमनी ] जीमंत (संश्लेष  
१७) ।  
जेमावण न [ जेमन ] भोजन कराना, खिलाना  
(भग ११, ११) ।  
जेमाविय वि [ जेमित ] भोजित, जिसको  
भोजन कराया गया हो वह (उप १३६ टी) ।  
जेमिय वि [ जेमित ] जीमा हुआ, जिसने  
भोजन किया हो वह (आया १, १—पत्र  
४१ टी) ।  
जेयव्य देखो जिण = जि ।  
जेय (शौ) देखो एय = एव (रंभा; कम्पू) ।  
जेयँ (अप) देखो जियँ (हे ४, ३६७) ।  
जेयड (अप) देखो जेत्तिअ (हे ४, ४०७) ।  
जेय (शौ) देखो एय = एव (पि; नाट) ।  
जेह (अप) वि [ याइश् ] जैसा (हे ४,  
४०२; पड्) ।  
जेहिल पुं [ जेहिल ] स्वनाम स्यात् एक जैन  
मुनि (कम्प) ।  
जो } सक [ ट्श ] देखना । जोइ (सण);  
जोअ } 'एसा हू वंकरकं, जोयइ तुह सुंमुहं  
जेण' (सुर ३; १२६) । जोयति (स ३६१) ।  
कर्म, जोइजइ (सण ३२) । वक. जोअंत  
(धम्म ११ टी; महा; सुर १०, २४४) ।  
कवक. जोइजंत. (सुपा ५७) ।  
जोअ अक [ चुत् ] प्रकाशित होना, चम-

कना । जोइ (कुमा) । भूका, जोइसु  
(भग) । वक. °जोअंत (कुमा; महा) ।  
जोअ सक [ द्योतय् ] प्रकाशित करना ।  
जोअइ (सुप्र १, ६, १३); 'वस्तवि य  
गिहं पुण वालपंडिया जोयए दुहिया' (सुपा  
६११) । जोएज्जा (विसे ६१२) ।  
जोअ सक [ योजय् ] १ समाप्त करना,  
सतम करना । २ करना । जोएइ (सुज्ज  
१०, १२—पत्र १८०; १८१; सुज १२—  
पत्र २३३) ।  
जोअ सक [ योजय् ] जोड़ना, युक्त करना ।  
जोएइ (महा) । वक. जोइयव्य, जोएअव्य  
जोयणिय, जोयणिज्ज (ज ५६६; स  
५६८; श्रीप; निवू १) ।  
जोअ पुं [ दे ] १ चन्द्र, चन्द्रमा (दे ३, ५८) ।  
२ युगल, युग (आया १, १ टी—पत्र  
४३) ।  
जोअ देखो जोग (अवि २५; स ३६१;  
कुमा) । °वडय न [ वटक ] चूर्ण-विशेष,  
पाचक चूर्ण, हाजमा (स २५२) ।  
जोअंगण [ दे ] देखो जोइंगण (भवि) ।  
जोअग वि [ द्योतक ] १ प्रकाशनेवाला २ न.  
व्याकरण-प्रसिद्ध निपात वगैरह पद (विसे  
१००३) ।  
जोअड पुं [ दे ] स्वद्योत, कीट-विशेष, जुगनू  
(पड्) ।  
जोअण न [ दे ] लोचन, नेत्र, चक्षु, आंख  
(दे ३, ५०) ।  
जोअण न [ योजन ] १ परिमाण-विशेष, चार  
कोश (भग; इक) । २ संतन्व्य, संयोग, जोड़ना  
(पएह १, १) ।  
जोअण न [ योवन ] युवावस्था, तल्लता,  
जवानी (उप १४२ टी; गा १६७) ।  
जोअणा स्त्री [ योजना ] जोड़ना, संयोग  
करना (उप पृ २२१) ।  
जोआ स्त्री [ द्यो ] १ स्वयं । २ आकाश  
(पड्) ।  
जोआवइत्तु वि [ योजयित् ] जोड़नेवाला,  
संयुक्त करनेवाला (ठा ४, ३) ।  
जोइ वि [ योगिन् ] १ युक्त, संयोगवाला ।  
२ चित्त-निरोध करनेवाला, समाधि लगाने-  
वाला । ३ पुं. मुनि, यति, साधु (सुपा २१६;

२१७) । ४ रामचन्द्र का स्वनाम-स्यात् एक  
मुनट (पउम ६७, १०) ।  
जोइ पुं [ ज्योतिस् ] १ प्रकाश, तेज (भग;  
ठा ४, ३) । २ अग्नि, वदि; 'गप्पि जहा  
जहा पडियं जोइमज्जं' (सुप्र १, १३) । ३  
प्रदीप आदि प्रकाशक वस्तु; 'जहा हि अये सह  
जाइणवि' (सुप्र १, १२) । ४ अग्नि का  
काम करनेवाला कल्पवृक्ष (सम १७) । ५  
ग्रह, नक्षत्र आदि प्रकाशक पदार्थ (चंद १) ।  
६ ज्ञान । ७ ज्ञान-युक्त । ८ प्रतिद्वि-युक्त ।  
९ सत्कर्म-कारक (ठा ४, ३) । १० स्वयं ।  
११ ग्रह वगैरह का विमान (राज) । १२  
ज्योतिष-शास्त्र (निर ३, ३) । °अंग-पुं  
[ अङ्ग ] अग्नि का काम करनेवाला कल्प-  
वृक्ष-विशेष (ठा १०) । °रस न [ रस ]  
रस की एक जाति (आया १, १) । देखो  
जोइस = ज्योतिस् ।  
जोइअ पुं [ दे ] कीट-विशेष, खद्योत, जुगनू,  
पटवोजना (दे ३, ५०) ।  
जोइअ वि [ दृष्ट ] देखा हुआ, विलोकित (सुर  
३, १७३; महा भवि) ।  
जोइअ वि [ योजित ] जोड़ा हुआ (स  
२६४) ।  
जोइअ देखो जोगिय (राज) ।  
जोइंगण पुं [ दे ] कीट-विशेष, इन्द्र-गोप (दे  
३, ५०) ।  
जोइङ्ग पुं [ ज्योतिष्क ] प्रदीप आदि प्रका-  
शक पदार्थ; 'किं सूरस्स दंसणाहिग्गे जाइङ्गं-  
तरं गवसेपदि' (रंभा) ।  
जोइङ्ग पुं [ दे. ज्योतिष्क ] १ प्रदीप, दीपक  
(दे ३, ४६; पव ४; वव ७) । २ प्रदीप  
आदि का प्रकाश (श्रीव ६५३) ।  
जोइणी स्त्री [ योगिनी ] १ योगिनी, संन्या-  
सिनी । २ एक प्रकार की देवी, ये चौसठ हैं  
(संति ११) ।  
जोइर वि [ दे ] स्वलित (दे ३, ४६) ।  
जोइस न [ दे ] नक्षत्र (दे ३, ४६) ।  
जोइस देखो जोइ = ज्योतिस् (चंद १; कम्प;  
विसे १८७०; जो १; ठा ६) । °राय पुं  
[ राज ] १ सूर्य । २ चन्द्र (सुज २०; १८) ।  
°ालय पुं [ आलय ] सूर्य आदि देव (उत्त  
३६) ।

जोइस पुं [ज्योतिष] १ देवों की एक जाति, सूर्य, चन्द्र, ग्रह आदि (कल्प; श्रौत; दंड २७)। २ न. सूर्य आदि का विमान (ति १२; जो १)। ३ शास्त्र-विशेष, ज्योतिष-शास्त्र (उत्त २)। ४ सूर्य आदि का चक्र। ५ सूर्य आदि का मार्ग, आकाश; 'जे गहा जाइसमि चारं चरति' (परण ३)।

जोइस पुं [ज्योतिष] १ सूर्य, चन्द्र आदि देवों की एक जाति (कल्प; पंचा २)। २ वि. ज्योतिष शास्त्र का जानकार, जोतिषी (सुपा १५६)।

जोइसिअ वि [ज्योतिषिक] १ ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता, देवज्ञ, जोतिषी (स २२; सुर ४, १००; सुपा २०३)। २ सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्क देव (श्रौत; जी २४; परण २)। ३ रात्रि पुं [राज] १ सूर्य, रवि। २ चन्द्रमा (परण २)।

जोइसिद पुं [ज्योतिरिन्द्र] १ सूर्य, रवि। २ चन्द्र, चन्द्रमा (ठा ६)।

जोइसिण पुं [ज्योत्सि] शुक्ल पक्ष (जो ४)।

जोइसिणा स्त्री [ज्योत्सि] चन्द्र की प्रभा, चन्द्रिका, चाँदनी (ठा २, ४)। पक्ष पुं [पक्ष] शुक्ल पक्ष (चंद १५)। भा स्त्री [भा] चन्द्र की एक अग्र-महिषी (भग १०, ५)।

जोइसिणी स्त्री [ज्योतिषी] देवी-विशेष (परण १७—पत्र ४६६)।

जोई स्त्री [दे] विद्युत्, विजली (दे ३, ४६; पङ् १)।

जोईरस देखो जोइ-रस (कल्प; जीव ३)।

जोईस पुं [योगीश] योगीन्द्र, योगि-राज (स १)।

जोईसर पुं [योगीश्वर] ऊपर देखो (सुपा ८३; रण ६)।

जोइकण न [योगकर्ण] गोत्र-विशेष (सुज १०, १६ वी)।

जोइकणिय न [योगकर्णिक] गोत्र-विशेष (सुज १०, १६)।

जोइकार देखो जेकार (गा ३३२ अ)।

जोइख वि [दे] मलिन, अपवित्र (दे ३, ४८)।

जोग देखो जुग = युग; 'समाज्याजोग समाजुत' (राय ४०)।

जोग पुं [योग] नक्षत्र-समूह का क्रम से चन्द्र और सूर्य के साथ संबन्ध (सुज १०, १)।

जोग पुं [योग] १ व्यापार, मन, वचन और शरीर की चेष्टा (ठा ४, १; सम १०; स ४७०)। २ चित्तनिरोध, मन-प्रणिवान, समाधि (पउम ६८, २३; उत्त १)। ३ वश करने के लिए या पागल आदि बनाने के लिए फँका जाता चूर्ण-विशेष; 'जोगो मइमोह-करो सोसे खित्तो इमाण सुत्ताए' (सुर ८, २०१)। ४ सम्बन्ध, संयोग, मेलन (ठा १०)।

५ ईप्सित वस्तु का लाभ (शाया १, ५)। ६ शब्द का अन्वयार्थ-सम्बन्ध (भास २४)। ७ बल, वीर्य, पराक्रम (कम्म ५)। ८ 'क्खेम न [चेम] ईप्सित वस्तु का लाभ और उसका संरक्षण (शाया १, ५)। ९ 'स्थ वि [स्थ] योग-निष्ठ, ध्यान-लीन (पउम ६८, २३)। १० 'थ पुं [थ] शब्द के अन्वयार्थों का अर्थ, व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द का अर्थ (भास २४)। ११ 'दिष्टि स्त्री [दिष्टि] त्रित्त-निरोध से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान-विशेष (राज)। १२ 'धर वि [धर] समाधि में कुशल, योगी (पउम ११६, १७)। १३ 'परि-व्याइया स्त्री [परिव्राजिका] समाधि-प्रधान व्रतितो-विशेष (शाया १, ६)। १४ पिंड पुं [पिण्ड] वशीकरण आदि के प्रयोग से प्राप्त की हुई मिस्रा (पंचा १३, निचू १३)। १५ 'मुदा स्त्री [मुदा] हाथ का विन्यास-विशेष (पंचा ३)। १६ 'व वि [वत्] १ शुभ प्रवृत्तिवाला (सुत्र १, २, १)। २ योगी, समाधि करनेवाला (उत्त ११)। ३ 'वाहि वि [वाहिन] १ शास्त्र-ज्ञान की आराधना के लिए शास्त्रोक्त तपधर्या को करनेवाला। २ समाधि में रहनेवाला (ठा ३, १—पत्र १२०)। ३ 'विहि पुं स्त्री [विधि] शास्त्रों की आराधना के लिए शास्त्र-निर्दिष्ट अनुष्ठान, तपश्चर्या-विशेष; 'इय वुत्तो जोगविही', 'एसा जोगविही' (अंग)। सत्य न [शास्त्र] चित्त-निरोध का प्रतिपादक शास्त्र (उवर १६०)।

जोग देखो जोग; 'इय सो न एत्थ जोगो,

जोगो पुण होइ अक्करो' (धम्म १२; सुर २, २०५; महा; सुपा २०८)।

जोगि देखो जोइ = योगिन् (कुमा)।

जोगिद पुं [योगीन्द्र] महान् योगी, योगीश्वर (रण २६)।

जोगिणी देखो जोइणी (सुर ३, १८६)।

जोगिय वि [योगिक] दो पदों के सम्बन्ध से बना हुआ शब्द, जैसे—उप-करोति, अभि-पेणयति (परह २, २—पत्र ११४)। २ यन्त्र-प्रयोग से बना हुआ (उप पृ ६४)।

जोगीसर देखो जोईसर (स २०१)।

जोगेसरी स्त्री [योगेश्वरी] देव-विशेष (रण)।

जोगेसी स्त्री [योगेशी] विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)।

जोग वि [योग्य] योग्य, उचित, लायक (ठा ३, १; सुपा २८)। २ प्रभु, समर्थ, शक्तिमान् (निचू २०)।

जोगी स्त्री [दे] चाडू, खुशामद, (दे ३, ४८)।

जोगी स्त्री [योग्या] १ शास्त्र का अभ्यास (भग ११; ११; जं ३)। २ गर्भ-धारण में समर्थ योगि (तंदु)।

जोज देखो जोअ = योजय्। भवि. जोज-इस्सामि (कुप्र १३०)। क. जोज (उत्त २७, ८)।

जोड सक [योजय्] जोड़ना, संयुक्त करना। वक्र. जोडेत (सुर ४; १६)। संक्र. जोडिऊण (महा)।

जोड पुं [दे] १ नक्षत्र (दे ३, ४६; पि ६)। २ रोग-विशेष (रण)।

जोड (अप) स्त्री [दे] जोड़ी, युगल; 'एरिस जोड न जुत्त' (कुप्र ४५३)।

जोडिअ पुं [दे] व्याघ्र, बहेलिया, चिड़ीमार (दे ३, ४६)।

जोडिअ वि [योजित] जोड़ा हुआ, संयुक्त किया हुआ (सुपा १४६; ३५१)।

जोग पुं [योन, यवन] म्लेच्छ देश-विशेष (शाया १, १)।

जोगि स्त्री [यानि] १ उत्पत्ति-स्थान (भग; सं ८२; प्रासू ११५)। २ कारण, हेतु, उपाय (ठा ३, ३; पंचा ४)। ३ जीव का उत्पत्ति-स्थान (ठा ७)। ४ स्त्री-चन्द्र, भग (अण)। ५ विहाण न [विधान] उत्पत्ति-

शात्र (विसे १७७५) । °सूल न [°शूल] योनि का एक रोग (शाया १, १६) ।

जोणिय वि [योनिक्, यवनिक] अनायं देश-विशेष से उत्पन्न । ब्री. °या (इक्; श्रौप; शाया १, १—पत्र ३७) ।

जोण्णलिआ ब्री [दे] अन्न-विशेष; जुआरि; जोन्हरी (दे ३, ५०) ।

जोण्ह वि [ज्योत्स्न] १ शुक्र, धेत, 'कालो वा जोएहो वा केणणुभावेण चंदस्स' (सुज १६) । २ पुं. शुक्र पत्र (जो ४) ।

जोण्हा स्त्री [ज्योत्स्ना] चन्द्र-प्रकाश (पड्; काप्र १६७) ।

जोण्हाल वि [ज्योत्स्नावत्] ज्योत्स्ना वाला, चन्द्रिकायुक्त (हि २, १५६) ।

जोत्त देखो जुत्त = युक्त (कुप्र ३८१) ।

जोत्त न [योक्त्र, °क] जोत्, रस्ती या जोत्तय चमड़े का तस्मा, जिससे वैल या घोड़ा, गाड़ी या हल में जोता जाता है (पएह २, ५; गा ६६२) ।

जोव देखो जोअ = दृश् । जोवइ (महा; भवि) ।

जोव पुं [दे] १ विन्दु । २ वि. स्तोक, घोड़ा (दे ३, ५२) ।

जोवण न [दे] १ यत्र, कल; 'आउज्जोवण'

(श्रोव ६० भा) । २ धान्य का मर्दन, अन्न-मलन (श्रोव ६० भा) ।

जोवारि स्त्री [दे] अन्न-विशेष, जुआरि (दे ३, ५०) ।

जोविय वि [दृष्ट] विलोकि (स १४७) ।

जोव्यण न [यौवन] १ तादृश्य, जवानी (प्राप्र; कण) । २ मव्य भाग (स २, १) ।

जोव्यणणीर न [दे] वयः-परिणाम, वृद्धत्व, जोव्यणवेअ वृद्धापा: 'जोव्यणणीरं तद-रातणे वि विजिण्दिवाण पुरिसाण' (दे ३, ५१) ।

जोव्यणिया स्त्री [यौवनिका] यौवन, जवानी (राय) ।

जोव्यणोवय न [दे] वृद्धापा, वृद्धत्व, जरा (दे ३, ५१) ।

जोस देखो जुस = जुप । वक्. जोसंत (राज) । प्रयो., संक्र. जोसियाण (वव ७) ।

जोस पुं [भोप] श्रवसान, अन्त (सूत्र. १, २, ३, २ टि) ।

जोसिअ वि [जुष्ट] सेवित (सूत्र १, २, ३) ।

जोसिआ स्त्री [योपिन्] स्त्री, महिला, नारी (पड्; वमं २) ।

जोसिणी देखो जोण्हा (अभि ३१) ।

जोह अक् [युध्] लड़ना । जोहइ (भवि) ।

जोह पुं [योध] सुमट, योद्धा (श्रौप; कुमा) ।

°ट्टाण न [°स्थान] सुमटों का युद्ध-कालीन शरीर-विन्यास, अंग-रचना-विशेष (ज १; निवृ २०) ।

जोहणा देखो जोण्हा (मै ७१) ।

जोहा स्त्री [शोधा] बुज-परिसर्प की एक जाति (सूत्र २, ३, २५) ।

जोहार सक [दे] जुहारना, जोहार करना, प्रणाम करना । कर्म. जोहारिज्जइ (आक २५, १३) ।

जोहार पुं [दे] जोहार, प्रणाम (पव ३८) ।

जोहि वि [योधिन्] लड़नेवाला, सुमट (पव ७१) ।

जोहि वि [योधिन्] लड़नेवाला, लड़वैया (श्रौप) ।

जोहिया स्त्री [योधिका] जंतु-विशेष, हाथ से चलनेवाली एक प्रकार की सर्प-जाति (जीव २) ।

जिअ } (शौ) अ [दे] श्रवधारण—निश्चय-जोअ } का सूचक अव्यय (प्राकृ ६८) ।

°जेव } (शौ) । देखो एव = एव (पि २३; °जेव्य } ८५) ।

उमड. देखो मड । उमडइ (हे ४, १३० टि) ।

उमडुराविअ वि [दे] निवासित, निवास-प्राप्त (पड्) ।

॥ इय सिरिपाइअसदमहणवन्मि जआराइसदसंकलणो सोलहमो तरंगो समतो ॥

## भ

भ पुं [भ] १. तालुत्थानीय व्यञ्जन वाण-विशेष (प्रामा; प्राप) । २ व्यान (विसे ३१६८) ।

भंकार पुं [भङ्कार] नृपुत्र वगैरह की आवाज (सुर ३, १८; पडि; सण) ।

भंकारिअ न [दे] श्रवचयन, फूल वगैरह का आदान या चुनना (दे ३, ५६) ।

भंख सक [दे] स्वीकार करना । भंखहु (अप) (सिदि ८६४) ।

भंख अक् [सं + तप्] संतप्त होना, संताप करना । भंखइ (हे ४, १४०) ।

भंख अक् [वि + लप्] विलाप करना, वक्तावद करना । भंखइ (हे ४, १४८) । वक्. भंखंत (कुमा) ।

'घरणासाओ गहिलीभूओ भंखइ नरेस ! एस धुवं । सोमोवि भणइ भंखसि तुमेव बहुलोहगहगहियो' (आ १४) ।

भंख सक [उपा + लभ्] उपासना देना, उलाहना देना । भंखइ (हे ४, १५६) ।

भंख अक् [निर् + धस्] निश्वास लेना । भंखइ (हे ४, २०१) ।

मंख वि [दे] तुष्ट, संतुष्ट, खुश (दे ३, ५३) ।  
 मंखण न [उपालम्भ] उपालम्भ, उलाहना (कुमा) ।  
 मंखर पुं [दे] शुष्क तर, सूखा पेड़ (दे ३, ५४) ।  
 मंखरिअ [दे] देखो मंकारिअ (दे ३, ५६) ।  
 मंखावण वि [संतापक] संताप करनेवाला (कुमा) ।  
 मंखिर वि [निःश्वसितृ] निःश्वस लेनेवाला (कुमा ७, ४४) ।  
 मंभ पुं [मंभ] कलह, भगड़ा (सम ५०) ।  
 °कर वि [°कर] कलहकारी, फूट करानेवाला (सम ३७) । °पत्त वि [°प्राप्त] क्लेश-प्राप्त (सूत्र १, १३) ।  
 मंभण } अक [मंभणाय] 'भन-भन'  
 मंभणक } शब्द करना । मंभणइ (गा ५७५ अ) । मंभणकइ (पिंग) ।  
 मंभणा स्त्री [मंभना] 'भन-भन' शब्द (गउड) ।  
 मंभ्ना स्त्री [मंभ्ना] वाद्य-विशेष, भांभ, फाल (राय ५० टी) ।  
 मंभ्ना स्त्री [मंभ्ना] १ प्रचण्ड वायु-विशेष (गा १७०; सख) । २ कलह, क्लेश, भगड़ा (उवः बृह ३) । ३ माया, कपट । ४ क्रोध, गुस्सा (सूत्र १, १३) । ५ तुषणा, लोभ (सूत्र २, २) । ६ व्याकुलता, व्यग्रता (आचा) ।  
 मंभिय वि [मंभित] बुझित, भूखा (राया १, १) ।  
 मंभ सक [भ्रम] धूमना, फिरना । मंभइ (हे ४, १६१) ।  
 मंभ अक [गुञ्ज] गुञ्जारव करना । वक्र. 'मंभंतमभिरभमरजलमालियं मालियं गहिउ' (सुपा ५२६) ।  
 मंभण न [भ्रमण] पर्यटन, परिभ्रमण (कुमा) ।  
 मंभलिआ स्त्री [दे] चंक्रमण, कुटिल गमन (दे ३, ५५) ।  
 मंभिअ वि [दे] जिस पर प्रहार किया गया हो वह, प्रहत (दे ३, ५५) ।  
 मंभी स्त्री [दे] छोटा किन्तु ऊँचा केश-कलाप (दे ३, ५३) ।

मंभली स्त्री [दे] अचती, कुलटा (दे ३, ५४) ।  
 मंभुअ पुं [दे] वृक्ष-विशेष, पीलु का पेड़ (दे ३, ५३) ।  
 मंभुली स्त्री [दे] अचती, कुलटा । २ क्रीड़ा, खेल (दे ३, ६१) ।  
 मंभिय वि [दे] प्रदुत, पलायित, भगाया हुआ (पड़) ।  
 मंभ सक [भ्रम] धूमना, फिरना । मंभइ (हे ४, १६१) ।  
 मंभ सक [आ + च्छादय] भांपना, आच्छादन करना, ढकना । मंभइ (पिंग) ।  
 संक्र. मंभिऊण, मंभिवि (कुमा; भवि) ।  
 मंभ सक [आ + क्रामय] आक्रमण करवाना । मंभइ (प्राकृ ७०) ।  
 मंभण वि [भ्रमण] भ्रमण-कर्ता (कुप्र ४) ।  
 मंभण न [भ्रमण] परिभ्रमण, पर्यटन (कुमा) ।  
 मंभणी स्त्री [दे] पद्म, आंख की बरौनी, आंख के बाल (दे ३, ५४; पात्र) ।  
 मंभा स्त्री [भम्पा] एकदम कूदना, भम्पा-पात (सुपा १६८) ।  
 मंभिअ वि [दे] १ घटित, टूटा हुआ । २ घटित, ग्राहत (दे ३, ६१) ।  
 मंभिअ वि [आच्छादित] भम्पा हुआ, बंद किया हुआ (पिंग); 'पईवओ मंभियो भत्ति' (महा); 'तओ एवं भणमाणस्स सहल्येणं मंभिश्रं मुहकुहरं सुमइस्स णाइलेण' (महानि ४) ।  
 मंभिय न [दे] वचनीय, लोक-निन्दा (दे ३, ५; भवि) ।  
 मंख देखो मंख = वि + लप् । वक्र. मंखंत (जय २३) ।  
 मंभ पुं [दे] भगड़ा, कलह (सुपा ५४६; ५४७) ।  
 मंभगुली स्त्री [दे] अभिसारिका, प्रिय से मिलने के लिए संकेत स्थान पर जानेवाली स्त्री या न्यायिका (विक्र १०१) ।  
 मंभर पुं [मंभर] १ वाद्य-विशेष, भांभ । २ पटह, ढोल । ३ कलि-मुग । ४ नद-विशेष (पि २१४) ।  
 मंभरिय वि [मंभरित] वाद्य-विशेष के शब्द से युक्त (ठा १०) ।

मंभरी स्त्री [दे] दूसरे के स्पर्श को रोकने के लिए बांडल लोग जो लकड़ी अपने पास रखते हैं वह (दे ३, ५४) ।  
 मंभ अक [शब्] १ भड़ना, पके फल आदि का गिरना, टपकना । २ हीन होना । ३ सक, भपट मारना, गिराना । मंभइ (हे ४, १३०) ।  
 वक्र. मंभंतं (कुमा) । कवक्र. 'वासासु सीय-वाएहि मंभिजंतो' (आव १) । संक्र. 'मंभिऊण पल्लविह्ला, पुणोवि जायंति तहरवा तुरियं । धीराणवि वणरिद्धी, गयावि न हु वुल्लहा एवं' (उप ७२८) ।  
 मंभित्ति अ [मंभित्ति] शीघ्र, जल्दी, तुरंत, (उप ७२८ टी; महा) ।  
 मंभण अ [दे] शीघ्रता, जल्दी (उप पृ ११०; रंभा) ।  
 मंभण सक [आ + छिद्] भपटना, भपट मारना, छीनना । मंभणमि (भवि) । संक्र. मंभिणमि (भवि) ।  
 मंभणपड न [दे] भपट, भटित, शीघ्र (हे ४, ३८८) ।  
 मंभणपिअ वि [आच्छिन्न] छीना हुआ (भवि) ।  
 मंभि अ [मंभित्ति] शीघ्र, जल्दी, तुरन्त; 'मंभि आपल्लवइ पुणो' (गा ६१३) ।  
 मंभिअ वि [दे] १ शिथिल, ढीला, सुस्त (गा २३०) । २ श्रान्त, खिन्न, (पड़) । ३ भड़ा हुआ, गिरा हुआ; 'करच्छडाभडिय-पखिलजले' (पउम ६६, १५) ।  
 मंभित्ति देखो मंभित्ति (सुर २, ४) ।  
 मंभिल देखो जडिल (हे १, १६४) ।  
 मंभी स्त्री [दे] निरंतर वृष्टि, भड़ी; गुजराती में 'मंभी' (दे ३, ५३) ।  
 मंभ सक [जुगुप्स्] घृणा करना । मंभइ (पड़) ।  
 मंभण अक [मंभणाय] 'भन-भन' आवाज करना । वक्र. मंभणमंभणंत (प्राप) ।  
 मंभणमंभणिअ वि [मंभणमंभित] 'भन-भन' आवाजवाला (पिंग) ।  
 मंभणमंभण देखो मंभणमंभण । मंभणमंभणइ (वजा ६६) ।  
 मंभणमंभणारव पुं [मंभणमंभणारव] 'भन-भन' आवाज (महा) ।



भगभणिय देखो भगभणिय (सुपा ५०) ।  
 भणिय देखो भणिय (रंभा) ।  
 भक्ति देखो भक्ति (हे १, ४२; पड; महा; सुर २, ६) ।  
 भक्तिय वि [दे] गत, गया हुआ । २ नष्ट (दे ३, ६१) ।  
 भक्तिवि वि [दे] पर्यस्त, उत्क्षिप्त (पड) ।  
 भक्त्य देखो भक्त्य । भक्त्य (पड) ।  
 भक्त्या न [दे] इन्द्रजाल, माया-जाल (दे ३, ५३) ।  
 भक्त्य पुंस्त्री [ध्वज] ध्वज, पताका (हे २, २७; औप) । औ. °या (औप) ।  
 भक्त्य अक [क्षर] भक्त्या, टपकना, चूना, गिरना । भक्त्य (हे ४, १७३) । वक्र. भक्त्य (कुमा; सुर ३, १०) ।  
 भक्त्य सक [स्मृ] याद करना । भक्त्य (हे ४, ७४; पड) । कृ. भक्त्यव्य (वृह ५) ।  
 भक्त्यं } पुं [दे] तृण का बनाया हुआ  
 भक्त्यं } पुष्प, चन्दा (दे ३, ५५) ।  
 भक्त्या वि [स्मारक] चिन्तन करनेवाला, ध्यान करनेवाला; 'भक्त्यां करणं भक्त्यां पभावगं शाण्डसंशुण्डाणं' (खंदि) ।  
 भक्त्यभक्त्य पुं [भक्त्यभक्त्य] निर्भक्त्य या भक्त्या आदि का 'भक्त्यभक्त्य' आवाज (सुर ३, १०) ।  
 भक्त्या न [क्षरण] भक्त्या, टपकना, पतन (वव १) ।  
 भक्त्या स्त्री [क्षरणा] ऊपर देखो (आवम) ।  
 भक्त्या पुं [दे] सुवर्णकार, सोनार (दे ३, ५४) ।  
 भक्त्या वि [क्षरित] टपका हुआ, गिरा हुआ, पतित (उव; श्लो ७६०) ।  
 भक्त्या पुं [दे] मशक, मच्छड़ (दे ३, ५४) ।  
 भक्त्या वि [दग्ध] जला हुआ, भस्मीभूत; 'जययुष्पुष्विरहानलजालोलिभक्त्यां हिमयं' (सुपा ६५७; हे ४, ३६५) ।  
 भक्त्या अक [जाज्वल्] भक्त्या, चमकना, दीपना । वक्र. भक्त्या (भवि) ।  
 भक्त्या स्त्री [दे] भोली, कोयली, थैली (दे ३, ५६) ।  
 भक्त्या देखो भक्त्या । भक्त्या (सुपा १८६) । वक्र. भक्त्या (आ २८) ।

भक्त्या वि [दे] क्षुब्ध, विचलित; 'धर-हरियवरं भक्त्यालियमायरं चलियसयलकुलसेलं' (कुलक ३३) ।  
 भक्त्या स्त्री [दे] मृगतृष्णा; धूप में जल-ज्ञान, व्ययं तृष्णा (दे ३, ५३; पात्र) ।  
 भक्त्या वि [दे] दग्ध, जला हुआ (दे भक्त्या वि [दे] ३, ५६) ।  
 भक्त्या स्त्री [भक्त्या] बलयाकार वाद्य-विशेष, हुडग वाजा, भाल, भालर (ठा १०; औप; सुर ३, ६६; सुपा ५०; कण्) ।  
 भक्त्या स्त्री [दे] अजा, वकरी (चंड) ।  
 भक्त्या वि [दे] संपूर्ण, परिपूर्ण, भरपूर (भवि) ।  
 भक्त्या स्त्री [क्षपणा] १ नाश, विनाश (विसे ६६१) । २ अव्ययन, पठन (विसे ६५८) ।  
 भक्त्या पुं [भक्त्या] १ एक देवविमान (देवेन्द्र १४०) । २ एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ११) ।  
 भक्त्या पुं [भक्त्या] १ मत्स्य, मछली (परह १, १) । २ चिन्धय पुं [चिह्नक] कामदेव, स्मर (कुमा) ।  
 भक्त्या पुं [दे] १ अयश, अपकीर्ति । २ तट, किनारा । ३ वि. तटस्थ, मध्यस्थ । ४ दीर्घ-गंभीर, लम्बा और गंभीर, बहुत गहरा (दे ३, ६०) । ५ टंक से छिन्न (दे ३, ६०; पात्र) ।  
 भक्त्या पुं [भक्त्या] छोटा मत्स्य (दे २, ५७) ।  
 भक्त्या पुं [दे] शत्रु-विशेष, शत्रु-विशेष; 'सरभक्त्यासत्सिद्धल-' (पठम ८, ६५) ।  
 भक्त्या वि [दे] १ पर्यस्त, उत्क्षिप्त । २ आक्रुष्ट, जिसपर आक्रोश किया गया हो वह (दे ३, ६२) ।  
 भक्त्या पुं [भक्त्या] काम, स्मर (कुमा) ।  
 भक्त्या न [दे] १ ताम्बूल, पान (दे ३, ६१; गड) । २ अर्थ (दे ३, ६१) ।  
 भक्त्या सक [ध्वं] चिन्ता करना, ध्यान करना । भक्त्या, भक्त्या (हे ४, ६) । वक्र. भक्त्या, भक्त्या (प्राह; महा) । संक्र. भक्त्या (आरा ११२) । हे. भक्त्या (कस) । कृ. भक्त्या, भक्त्या, भक्त्या, भक्त्या (कुमा; आरा ७८; आव ४; ति १०; सुर १४, ८४) ।

भक्त्या वि [ध्यायिन्] चिन्तन करनेवाला, ध्यान करनेवाला (आचा) ।  
 भक्त्या वि [ध्याय] चिन्तित (सिरि १२५५) ।  
 भक्त्या वि [ध्याय] ध्यान करनेवाला, चिन्तक (आव ४) ।  
 भक्त्या न [दे, भक्त्या] १ लता-गहन, निकुञ्ज, काड़ी (दे ३, ५७; ७, ८४; पात्र; सुर ७, २४३) । २ वृक्ष, पेड़; 'आश्रमो भक्त्याभक्ति' (दे १, ६१); 'द्विष्टो य तए पोमाड्भक्त्यायस्स इभक्ति पएसे विणिग्गओ पायओ' (स १४४) ।  
 भक्त्या न [भक्त्या] १ भोप, क्षय, क्षीणता । २ प्रस्फोटन, भक्त्या (राज) ।  
 भक्त्या न [दे] कर्पास-फल, डोडों, कपास (दे ३, ५७) ।  
 भक्त्या स्त्री [भक्त्या] भक्त्या, सफा कराना, मार्जन कराना । औ. °णी (सुपा ३७३) ।  
 भक्त्या वि [ध्यान] ध्यानकर्ता (श्रु १२८) ।  
 भक्त्या पुं [ध्यान] १ चिन्ता, विचार, उत्कण्ठ-पूर्वक स्मरण, सोच (आव ४; ठा ४, १, हे २, २६) । २ एक ही वस्तु में मन की स्थिरता, ली लगाना (ठा ४, १) । ३ मन आदि की चैष्टा का निरोध । ४ दृढ़ प्रयत्न से मन वगैरह का व्यापार (विसे ३०७; ठा ४, १) ।  
 भक्त्या स्त्री [ध्यानान्तरिका] १ दो ध्यानों का मध्य भाग; वह समय जिसमें प्रथम ध्यान की समाप्ति हुई हो और दूसरे का आरम्भ जबतक न किया गया हो और अन्य अनेक ध्यान करने के वाकी हो (ठा ६, भग, ५, ४) । २ एक ध्यान समाप्त होने पर शेष ध्यानों में किसी एक को प्रथम प्रारंभ करने का विमर्श (वृह १) ।  
 भक्त्या वि [ध्यायिन्] ध्यान करनेवाला (आरा ८६) ।  
 भक्त्या सक [दह] जलाना, दाह देना, दग्ध करना । भक्त्या (सुत्र २; २, ४४) । वक्र. भक्त्या (सुत्र २, २, ४४) ।  
 भक्त्या वि [दे] दग्ध, जला हुआ (आचा २, १; १) । थंडिल न [स्थण्डिल] दग्ध भूमि (आचा २, १, १) ।

भाम वि [ध्याम] अतुज्ज्वल (परह १, २—  
पत्र ४०) ।  
भामण न [दे] जलाना, प्राग लगाना प्रदीप-  
नक (वव २) ।  
भामर वि [दे] वृद्ध, वृद्धा (दे ३, ५७) ।  
भामल न [दे] १ श्रांख का एक प्रकार का  
रोग, गुजराती में 'भामरो' । २ वि. भामर  
रोगवाला (उप ७६८ टी; आ १२) ।  
भामल वि [ध्यामल] श्याम, काला (धर्मसं  
८०७) ।  
भामलिय वि [ध्यामलित] काला किया  
हुआ (कुप ५८) ।  
भामिअ वि [दे] दग्ध, प्रज्वलित (दे ३,  
५६; वव ७; आवम) । २ श्यामलित, काला  
किया हुआ । ३ कलंकित; 'घणदड्डपयंगाएवि  
जीए जा भामियो नेय' (साच १६) ।  
भाय वि [ध्यात] भस्मीकृत, दग्ध, जला  
हुआ (एदि) ।  
भायव्य देखो भा ।  
भारुआ स्त्री [दे] चीरी, क्षुद्र जन्तु-विशेष  
(दे ३, ५७) ।  
भाचण न [ध्यापन] देखो भामग (राज) ।  
भाचणा न [ध्यापना] दाह, जलाना, अग्नि-  
संस्कार (आवम) ।  
भाचणा देखो अभाचणा (संघोष २४) ।  
भिक्षण न [दे] गुस्ताकरना (उप १४३ टी) ।  
भिक्षिअ न [दे] वचनीय, लोकापवाद, लोक-  
निन्दा (दे ३, ५५) ।  
भिक्षिअ } पुं [दे] क्षुद्र कीट-विशेष, श्रोत्रिय  
भिक्षिअ } जीव की एक जाति, भौंगूर या  
भिक्षुकी (जीव १) ।  
भिक्षिअ वि [दे] वृमुक्षित, भूखा (वृह ६) ।  
भिक्षिणी } स्त्री [दे] एक प्रकार का पेड़,  
भिक्षिणी } लता-विशेष (उप १०३१ टी;  
आचा २, १, ८; वृह १) ।  
भिक्षन्त } वि [क्षीयमाण] जो क्षय को  
भिक्षमाण } प्राप्त होता हो, कुरा होता हुआ  
(से ५, ५८; ७२८ टी; कुमा) ।  
भिक्षक अक [क्षि] क्षीण होना । भिक्षक  
(प्राक् ६३) ।  
भिक्षिनी स्त्री [दे] बल्ली-विशेष (आचा २,  
१, ८, ३) ।  
भिक्षण देखो भौण (से १, ३५; कुमा) ।

भिमिय } न [दे] शरीर के अवयवों की  
भिमिय } जड़ता (आचा) ।  
भिया देखो भा । भियाइ, भियायइ (उवा;  
भग; कस; पि ४७६) । वक्र. भियायमाण  
(आया १, १—पत्र २८; ६०) ।  
भिरिड न [दे] जीएण कूप, पुराना इनारा (दे  
३, ५७) ।  
भिलिअ वि [दे] भौला हुआ, पकड़ी हुई  
वह वस्तु जो ऊपर से गिरती हो (सुपा १७८) ।  
भिल अक [रना] भौलना, स्नान करना ।  
भिलइ (कुमा) ।  
भिलिआ स्त्री [भिलिआ] कीट-विशेष, श्रोत्रिय  
जीव की एक जाति, भिल्ली (पात्र; परण १) ।  
भिल्लिरिआ स्त्री [दे] १ चीही-नामक वृण ।  
२ मशक, मच्छड़ (दे ३, ६२) ।  
भिल्लिरी स्त्री [दे] मछली पकड़ने की एक  
तरह की जाल (विपा १, ८—पत्र ८५) ।  
भिल्ली स्त्री [दे] लहरी, तरंग (गउड) ।  
भिल्ली स्त्री [भिल्ली] १ वनस्पति-विशेष  
(परण १; उप १०३१ टी) । २ कीट-विशेष,  
भौंगूर (गा ४६४) ।  
भौण वि [क्षौण] दुर्बल, कुरा (हे २, ३;  
पात्र) ।  
भौण न [दे] १ अंग, शरीर । २ कीट,  
कीड़ा (दे ३, ६२) ।  
भौरा स्त्री [दे] लजा, शरम (दे ३, ५७) ।  
भौख पुं [दे] तुणय-नामक वाय (दे ३, ५८) ।  
भुंभिय वि [दे] १ वृमुक्षित, भूखा (परह  
१, ३—पत्र ४६) । २ भुरा हुआ, भुरभा  
हुआ (भग १६, ४) ।  
भुंभुंमुसय न [दे] मन का दुःख (दे ३,  
५८) ।  
भुंभुण न [दे] १ प्रवाह (दे ३, ५८) । २  
पशु-विशेष, जो मनुष्य के शरीर की गरमीसे  
जीता है और जिसका रोम कपड़े के लिये  
बहुमूल्य है (उप ५५२) ।  
भुंभुडा स्त्री [दे] भोपड़ी, वृण-कुटीर, वृण-  
निमित्त घर (हे ४, ४१६; ४१८) ।  
भुंभुणग न [दे] प्रालम्ब (आया १, १) ।  
भुंभु देखो जुंभु = युव । भुंभुइ (पि  
२१४) । वक्र. भुंभुइ (हे ४, ३७६) ।

भुंभु वि [दे] झूठ, अलीक, असत्य (दे ३,  
५८) ।  
भुण सक [जुगुप्स्] घृणा करना, निन्दा  
करना । भुणइ (हे ४, ४; सुपा ३१८) ।  
भुणि पुं [ध्वनि] शब्द, आवाज (हे १, ५२;  
पइ; कुमा) ।  
भुणिअ वि [जुगुप्सित] निन्दित, घृणित  
(कुमा) ।  
भुत्ती स्त्री [दे] छेद, विच्छेद (दे ३, ५८) ।  
भुमुभुमुसय न [दे] मन का दुःख (दे ३,  
५८) ।  
भुल्लुक् पुं [दे] अकस्मात् प्रकाश (आत्मानु  
६) ।  
भुल्ल अक [अन्दोल] झूलना, डोलना,  
लटकना । वक्र. भुल्लंत (सुपा ३१७) ।  
भुल्लण स्त्री [दे] छन्द-विशेष । स्त्री. ०णा  
(पिग) ।  
भुल्लुरी स्त्री [दे] गुल्म, लता, गाछ (दे ६,  
५८) ।  
भुस देखो भूस । संक्र. भूसित्ता (पि २०६) ।  
भुसणा देखो भूसणा (राज) ।  
भुसिय देखो भूसिय (वृह २) ।  
भुसिर न [शुपिर] १ रत्न, विवर, पोल,  
वाली जगह (आया १, ८; सुपा ६२०) ।  
२ वि. पोला, झूँडा (ठा २, ३; आया १,  
२; परह १, २) ।  
भूस देखो भूस । भूसति (संघोष १८) ।  
भूस सक [स्मृ] याद करना, चिन्तन करना ।  
भूसइ (हे ४, ७४) । वक्र. भूसंत (कुमा) ।  
भूस सक [जुगुप्स्] निन्दा करना, घृणा  
करना;  
'निखमतोहंगमइ, दिदुणं तस्स ख्वणुरिदि ।  
इंदो वि देवराया, भूसइ नियमेण नियख्वं'  
(रयण ४) ।  
भूस अक [क्षि] भुरना, क्षीण होना, सूखना ।  
वक्र. भूसंत, भूसमाण (सण; उप पृ २७) ।  
भूस वि [दे] कुटिल, बक्र, टेड़ा (दे ३, ५६) ।  
भूसिय वि [स्मृत] चिन्तित, याद किया हुआ  
(भवि) ।  
भूस सक [जुप्] १ सेवा करना । २ प्रीति  
करना । ३ क्षीण करना, खपाना । वक्र.

भूसमाण (आचा) । संक. भूसित्ता, भूसित्तार्ण, भूसैत्ता (श्रीपः वि ५५३; अंत २७) ।  
 भूसणा श्री [जोपणा] सेवा, आराधना (उवाः अंत; श्रीपः नाया १, १) ।  
 भूसरिअ वि [दे] १ अत्यर्थ, अत्यन्त । २ स्वच्छ, निर्मल (दे ३, ६२) ।  
 भूसिय वि [जुष्ट] १ सेवित, आराधित (राया १, १; श्रीप) । २ क्षपित, निम्नः परित्यक्त (उवाः ठा २, २) ।  
 भेडुअ पुं [दे] कन्दुक, नैद (दे ३, ५२) ।  
 भेय देखो भा ।  
 भेर पुं [दे] पुराता घण्टा (दे ३, ५६) ।  
 भोटिंग पुं [दे] देव-विशेष (कुप्र ४७२) ।  
 भोट्टी श्री [दे] अर्ध-महिषी, भैस की एक जाति (दे ३, ५६) ।

भौंडलिआ श्री [दे] रास के समान एक प्रकार की क्रीड़ा (दे ३, ६०) ।  
 भौंड सक [शाटय्] पेड़ आदि से पत्र बगैरह को गिराना । भौंडइ (वि ३२६) ।  
 भौंड न [दे] १ पेड़ आदि से पत्र आदि का गिराना । २ जीर्ण वृक्ष (राया १, ११—पत्र १७१) ।  
 भौंडण न [शाटन] पातन, गिराना (पएह १, १—पत्र २३) ।  
 भौंडण पुं [दे] १ चना, अन्न-विशेष । २ सूखे चने का शाक (दे ३, ५६) ।  
 भौंडिअ पुं [दे] व्याघ्र, शिकारी, बहेलिया (दे ३, ६०) ।  
 भौलिआ । श्री [दे. भौलिका] भौली, भौहिया । धैली, कोयली (दे ३, ५३; नुप्र २, ४) ।  
 भौस देखो भूस । भौसेइ (आना) । बक.

भौसमाण, भौसेमाण (नुपा २६; आचा) ।  
 संक. 'संसेहणाए मम्मं भौसित्ता नियवदेहं तु' (सुर ६, २४६) ।  
 भौस सक [गवेषय्] खोजना, अन्वेषण करना । भौसेहि (वृह ३) ।  
 भौस सक [भौषय्] डालना, प्रक्षेप करना ।  
 छ भौसेयव्य (वव १) ।  
 भौस पुं [भौष] राश्रि-विशेष, जिसके डालने से समान भागाकार हो वह राश्रि (वव १) ।  
 भौस पुं [दे] भाड़ना, दूर करना (ठा ५, २) ।  
 भौसण न [दे] गवेषण, मार्गण; 'आनोणणं ति वा मणणं ति वा भौसणं ति वा एणट्टं' (वव २) ।  
 भौसणा देखो भूसणा (सम ११६; नग) ।  
 भौसणा श्री [जोपणा] अन्त समय की आराधना, संलेखना (आवक ३७८) ।  
 भौसिअ देखा भूसिय (आचा; हे ४, २५८) ।

॥ इय सिरिपाइअसद्महण्यमि भन्नाराइसद्संकलणो  
 सत्तरहमो तरंगो समत्तो ॥

ट

ट पुं [ट] मूढ-स्थानीय व्यञ्जन बर्ण-विशेष (प्रासा; प्राप) ।  
 टउया श्री [दे] आह्वान-शब्द, पुकारने की आवाज; गुजराती में 'टीको' (कुप्र ३०६) ।  
 टंक पुं [टङ्क] चित्र-विशेष, सिक्का पर का चित्र (पंचा ३, ३५) ।  
 टंक पुं [टङ्क] १ तलवार आदि का अग्र भाग (पएह १, १—पत्र १८) । २ एक प्रकार का सिक्का (आ १२; सुपा ५१३) ।  
 ३ एक दिशा में छिद्र पर्वत (राया १, १—पत्र ६३) । ४ पत्थर काटने का अन्न, टौकी, छेनी (से ५, ३५; उप पृ ३१५) । ५ परिमाण-विशेष, चार मास की तौल (पिंग) ।  
 ६ पद्मि-विशेष (जीव १) ।  
 टंक पुं [दे] १ तलवार, खड्ग । २ खात, खुदा हुआ जलाशय । ३ जङ्घा, जांघ । ४

मिति, भोंत । ५ तट, किनारा (दे ४, ४) ।  
 ६ खनिज, कुदाल (दे ४, ४; से ५, ३५) ।  
 ७ वि. छिन्न, छेदा हुआ, काटा हुआ (दे ४, ४) ।  
 टंकण पुं [टङ्कण] म्लेच्छ की एक जाति, (वित्ते १४४४) ।  
 टंकवत्थुल पुं [दे] कन्द-विशेष, एक जाति की तरकारी (आ २०) ।  
 टंका श्री [दे] १ जंवा, जांघ (पाय) । २ स्वनाम-स्थाय एक तीर्थ (ती ४३) ।  
 टंकार पुं [टङ्कार] धनुष का शब्द (भवि) ।  
 टंकार पुं [दे] भोज्य, तेज (गउठ) ।  
 टंकिअ वि [दे] प्रखर, फैला हुआ (दे ४, १) ।  
 टंकिअ वि [टङ्कित] टांकी से काटा हुआ (दे ४, ५०) ।

टंकिआ श्री [टङ्किआ] पत्थर काटने का अन्न, टांकी (सम्मत् २२७) ।  
 टंवरय वि [दे] नारवाला, गुह, भारी (दे ४, २) ।  
 टङ्क पुं [टङ्क] देश-विशेष (हे १, १६५) ।  
 टङ्क वि [टङ्क] १ टङ्क-देशीय । २ पुं. भाट की एक जाति (कुप्र १२) ।  
 टङ्कर पुं [दे] ठोकर, अंग से अंग का आघात (सुर १२, ६७; वव १) ।  
 टङ्करा श्री [दे] टकोर, मुंड-सिर में उंगली का आघात (वव १ टी) ।  
 टङ्कारा श्री [दे] अरखि-वृक्ष का फूल (दे ४, २) ।  
 टंगर पुं [तांगर] १ वृक्ष-विशेष, तगर का वृक्ष । २ सुगन्धित काष्ठ-विशेष (हे १, २०५; कुमा) ।

दृक्क पुं [दे] लकड़ी आदि के आघात को आवाज (कुप्र ३०६) ।  
 दृद्विआ व्री [दे] जवनिका, परवा (दे ४, १) ।  
 टप्पर वि [दे] विकराल कर्णवाला, भयंकर कानवाला (दे ४, २; सुपा ५२०; कप्पु) ।  
 टमर पुं [दे] केश-चय, बाल-समूह (दे ४, १) ।  
 टयर देखो टगर (कुमा) ।  
 टलटल अक [टलटलाय्] 'टल-टल' आवाज करना । वक्र. टलटलंत (प्रासू १६३) ।  
 टलटलिय वि [टलटलित्] 'टल-टल' आवाज वाला (उप ६४८ टी) ।  
 टलवल अक [दे] १ तड़फड़ाना, तड़पना । २ घबराना, हैरान होना । टलवलंति (धर्मवि ३८) । वक्र. टलवलंत (सिरि ६०८) ।  
 टलिअ वि [दे] उला हुआ, हटा हुआ (सिरि ६८३) ।  
 टसर न [दे] विमोहन, मोड़ना (दे ४, १) ।  
 टसर पुं [त्रसर] टसर, एक प्रकार का सूता (हे १, २०५; कुमा) ।  
 टसरोट्ट न [दे] शेखर, अचतंस (दे ४, १) ।  
 टहरिय वि [दे] ऊँचा किया हुआ, 'टहरिय-कन्नो जाओ मियुव्व गोईं कहं सोउं (धर्मवि १४७; सम्मत १५८) ।  
 टार पुं [दे] अघम, अघ, हठी घोड़ा (दे ४, २); 'अइसिखिओवि न मुयइ, अणयं वारव्व टारत्तं' (आ २७) । २ टट्ट, छोटा घोड़ा (उप १५५) ।  
 टाल न [दे] कोमल फल, गुठली उत्पन्न होने के पहले की अवस्था वाला फल (दस ७) ।  
 टिटं [दे] देखो टेटा (भवि) । °साला टिंटा व्री [°शाला] जुआखाना, जुआ खेलने का अड्डा (सुपा ४६५) ।  
 टिवरु } पुं [दे] वृक्ष-विशेष, तेंदू का पेड़  
 टिवरुअ } (दे ४, ३; उप १०३१ टी; पात्र) ।

टिवरुणी व्री [दे] ऊपर देखो (पि २१८) ।  
 टिक न [दे] १ टीका, तिलक । २ सिर का स्तवक, मस्तक पर रखता जाता गुच्छा (दे ४, ३) ।  
 टिकिद (शौ) वि [दे] तिलक-विभूषित (कप्पु) ।  
 टिग्वर वि [दे] स्वविर, वृद्ध, बूढ़ा (दे ४, ३) ।  
 टिट्ठिभ पुं [टिट्ठिभ] १ पक्षि-विशेष, टिट्टि-हरी, टिट्टिहा । २ जल-जन्तु विशेष (सुर १०; १८५) । व्री. °भी (विपा १, ३) ।  
 टिट्ठियाव सक [दे] बोलने की प्रेरणा करना, 'टि-टि' आवाज करने को सिखलाना । टिट्ठियावेइ (णाय १, ३) । कवक्र. टिट्ठिया-वेज्जमाण (णाय १, ३—पव ६४) ।  
 टिप्पणय न [टिप्पनक] विवरण, छोटी टीका (सुपा ३२४) ।  
 टिप्पी व्री [दे] तिलक, टीका (दे ४, ३) ।  
 टिरिटिह सक [भ्रम्] धूमना, फिरना, चलना । टिरिटिहइ (हे ४, १६१) । वक्र. टिरिटिहंत (कुमा) ।  
 टिहिकिय वि [दे] विभूषित (धर्मवि ५१) ।  
 टिविडिक सक [मण्डय्] मण्डित करना, विभूषित करना । टिविडिकइ (हे ४, ११५; कुमा) । वक्र. टिविडिकंत (सुपा २८) ।  
 टिविडिकिअ वि [मण्डित] विभूषित, अलंकृत (पात्र) ।  
 टुंटे वि [दे] छिन्न-हस्त, जिसका हाथ कटा हुआ हो वह (दे ४, ३; प्रासू १४२; १४३) ।  
 टुंणुण अक [टुणुणाय्] 'टुन टुन' आवाज करना । वक्र. टुंणुणंत (गा ६८५; काप्र ६६५) ।

टुंणय पुं [दे] आघात-विशेष, गुजराती में 'डुंवी' (सुर १२, ६७) ।  
 टुट्ट अक [टुट्ट] टूटना, कट जाना । टुट्टइ (पिग) । वक्र. टुट्टंत (सि ६, ६३) ।  
 टुपरग न [दे] जैन साधु का एक छोटा पात्र (कुलक ११) ।  
 टुवर पुं [त्वर] १ जिसको दाढ़ी-मूँछ न उगी हो ऐसा चपरासी । २ जिसने दाढ़ी-मूँछ कटवा दी हो ऐसा प्रतिहार (हे १, २०६; कुमा) ।  
 टेट पुं [दे] १ मध्य-स्थित मण्डि-विशेष । वि. भोपण (कप्पु) ।  
 टेटा व्री [दे] जुआखाना, जुआ खेलने का अड्डा (दे ४, ३) ।  
 टेटा व्री [दे] १ अक्षि-गोलक । २ छाती का शुष्क त्रण (कप्पु) ।  
 ठैवरुय न [दे] फल-विशेष (आचा २, १, ८, ६) ।  
 ठेकर न [दे] स्थल, प्रदेश (दे ४, ३) ।  
 ठोक्कण } न [दे] दाहू नापने का वस्तु  
 ठोक्कणखंड } (दे ४, ४) ।  
 ठोपिआ व्री [दे] ठोपी, सिर पर रखने का सिला हुआ एक प्रकार का वस्त्र (सुपा २६३) ।  
 ठोप्प पुं [दे] श्रेष्ठि-विशेष (स ४५१) ।  
 ठोप्पर पुं [दे] शिरत्राण-विशेष, ठोपी (पिग) ।  
 ठोल पुं [दे] १ शलभ, जन्तु-विशेष । २ पिशाच (दे ४, ४; प्रासू १६२) । °गइ व्री [°गति] गुरु-वन्दन का एक दोष (पव २) । °गइ व्री [°कृति] प्रशस्त आकारवाला (राज) ।  
 ठोल पुं [दे] १ टिड्डी, टिडी (पव २) । २ मूय (कुप्र ५८) ।  
 ठोलं व पुं [दे] मधूक, वृक्ष-विशेष, महुआ का पेड़ (दे ४, ४) ।

॥ इअ सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि टयाराइसहसंकलयो

अट्टारहमो तरंगो समत्तो ॥

## ठ

ठ पुं [ठ] मूवं-स्थानीय व्यवजन वरुण-विशेष (प्राणः प्राण) ।  
 ठइअ वि [दे] ? उत्तिप्त, ऊपर फेंका हुआ । २ पुं. अवकाश (दे ४, ५) ।  
 ठइअ वि [स्थगित] ? आच्छादित, ढका हुआ । २ वन्द क्रिया हुआ, रका हुआ (स १७३) ।  
 ठइअ देखो ठविअ (पिग) ।  
 ठंडिल्ल देखो थंडिल्ल (ज्व) ।  
 ठंभ देखो थंभ = स्तम्भ । कर्म. ठंभिज्जइ (हे २, ६) ।  
 ठंभ देखो थंभ = स्तम्भ (हे २, ६; पड्) ।  
 ठकुर } पुं [ठकुर] ? ठकुर, क्षत्रिय,  
 ठकुर } राजपूत (स ५४८; सुपा ४१२;  
 सट्टि ६८) । २ ग्राम वगैरह का स्वामी,  
 नायक, मुखिया (आवम) ।  
 ठकार पुं [ठःकार] 'ठः' अक्षरः 'तम्मि चलंते  
 करिमयसित्ताइ महीइ तुरगबुरसेणी । लिहिया  
 रिऊण विजए मंती ठकारपति व्व' (धर्मवि  
 २०) ।  
 ठग } सक [स्थग] वन्द करना, ढकना ।  
 ठय } ठगेइ, ठएइ (सट्टि २३ टी; सुख २,  
 १७) ।  
 ठग पुं [उक] ठग, धूल, वच्चक (दे २,  
 ५८; कुमा) ।  
 ठगिय वि [दे] वञ्चित, ठगा हुआ, विप्र-  
 तारित (सुपा १२४) ।  
 ठगिय देखो ठइय = स्वगित (उप पृ ३८८) ।  
 ठट्टार पुं [दे] ताम्र, पितलआदि धातुके वर्तन  
 बनाकर जोविका चलानेवाला, ठटेरा (धर्म २) ।  
 ठड्ड वि [स्तव्य] हक्कावक्का, कुण्डित,  
 जड़ (हे २, ३६; वज्जा ६२) ।  
 ठप्प वि [स्थाप्य] स्थापनीय, स्थापन करने  
 योग्य (श्लो ६) ।  
 ठय सक [स्थग्] वन्द करना, रोकना ।  
 ठएति (स १५६) ।  
 ठयण [स्थगन] ? रकाव, अटकाव । २ वि.  
 रोकनेवाला । वी. णी (उप ६६६) ।  
 ठयण न [स्थगन] वन्द करना, 'अच्छिउपयं  
 च' (पंचा २, २५) ।

ठरिअ वि [दे] ? गौरवित । २ ऊव्वं-  
 स्यित (दे ४, ६) ।  
 ठलिय वि [दे] खाली, शून्य, रिक्त किया  
 गया (सुपा २३७) ।  
 ठल्ल वि [दे] निर्धन, वन-रहित, दरिद्र (दे  
 ४, ५) ।  
 ठव सक [स्थाप्य] स्थापन करना । ठवइ,  
 ठवेइ (पिग; कण; महा) । ठवे (भग) । वक्क.  
 ठवंत (रयण ६३) । संक. ठविउं, ठविऊण,  
 ठवित्ता, ठविचु, ठवेत्ता (पि ५७६; ५८६;  
 ५८२; प्रासू २७; पि ५८२) ।  
 ठवण न [स्थापन] स्थापन, संस्थापन (सुर  
 २, १७७) ।  
 ठवणा वी [स्थापना] ? प्रतिकृति, चित्र,  
 मूर्ति, आकार (ठा २, ४; १०; अणु) । २  
 स्थापन, न्यास (ठा ४, ३) । ३ सांकेतिक  
 वस्तु, मुख्य वस्तु के अभाव या अनुपस्थिति  
 में जिस किसी चीज में उसका संकेत किया  
 जाय वह वस्तु (विसे २६२७) । ४ जैन  
 साधुओं की भिक्षा का एक दोष, साधु को  
 भिक्षा में देने के लिए रखी हुई वस्तु (ठा ३,  
 ४—पत्र १५६) । ५ अनुज्ञा, संमति (एण्दि) ।  
 ६ पयुं पण्णा, आठ दिनों का जैन पर्व-विशेष  
 (निव्व १०) । °कुळ पुं [कुळ] भिक्षा के  
 लिए प्रतिपिद्ध कुल (निव्व ४) । °णय पुं  
 [°णय] स्थापन को ही प्रधान माननेवाला  
 मत (राज) । °पुरिस पुं [°पुरूप] पुरुष की  
 मूर्ति या चित्र (ठा ३, १; सूत्र १, ४, १) ।  
 °यरिय पुं [°चार्य] जिस वस्तु में आचार्य  
 का संकेत किया जाय वह वस्तु (धर्म २) ।  
 °सच न [°सत्थ] स्थापना-विषयक सत्य,  
 जिन भगवान् की मूर्ति को जिन कहना यह  
 स्थापना-सत्य है (ठा १०; पण्ण ११) ।  
 ठवणा वी [स्थापना] वासना (एण्दि १७६) ।  
 ठवणी वी [स्थापनी] न्यास, न्यास रूप से  
 रखा हुआ द्रव्य (आ १४) । °मोस पुं  
 [°मोप] न्यास की चोरी, न्यास का अपलाप;  
 'दोहेनु मित्तदोही; ठवणीमोसो असेसमोसेसु'  
 (आ १४) ।

ठविअ वि [स्थापित] रखा हुआ, संस्थापित  
 (पड्; पि ५६४; ठा ५, २) ।  
 ठविआ वी [दे] प्रतिमा, मूर्ति, प्रतिकृति  
 (दे ४, ५) ।  
 ठविर देखो थविर पि १६६) ।  
 ठा अक [स्था] बैठना, स्थिर होना, रहना,  
 गति का रकाव करना । ठाइ, ठाअइ (हे ४,  
 १६; पड्) । वक्क. ठायमाण (उप १३०  
 टी) । संक. ठाइऊण, ठाऊण (पि ३०६;  
 पंचा १८) । हेक्क. ठाइत्तए, ठाउं (कस;  
 आव ५) । क. ठाणिज्ज, ठायव्व, ठाए-  
 यव्व (एया १, १४; सुपा ३०२; सुर ६,  
 ३३) ।  
 ठाइ वि [स्थायिन्] रहनेवाला, स्थिर होने-  
 वाला (श्रौप; कण्) ।  
 ठाएयव्व देखो ठा ।  
 ठाएयव्व देखो ठाव ।  
 ठाण पुं [दे] मान, गर्व, अभिमान (दे ४,  
 ५) ।  
 ठाण पुं [स्थान] ? स्थिति, अवस्थान, गति  
 की निवृत्ति (सूत्र १, ५, १; वृह १) । २ स्वल्प-  
 प्राप्ति (सम्म १) । ३ निवास, रहना (सूत्र  
 १, ११; निव्व १) । ४ कारण, निमित्त, हेतु  
 (सूत्र १, १, २; ठा २, ४) । ५ पर्यंक  
 आदि आसन (राज) । ६ प्रकार, भेद (ठा  
 १०; आहू ४) । ७ पद, जगह (ठा १०) ।  
 ८ गुण, पर्याय, धर्म (ठा ५, ३; आव ४) ।  
 ९ आश्रय, आचार, वसति, मकान, घर (ठा  
 ४, ३) । १० तृतीय जैन श्रंग-ग्रन्थः 'ठाणांग'  
 सूत्र (ठा १) । ११ 'ठाणांग' सूत्र का अध्ययन,  
 परिच्छेद (ठा १; २; ३; ४; ५) । १२ कायोत्सर्ग  
 (श्रौप) । °भट्ट वि [°भट्ट] ? अपनी जगह  
 से च्युत (एया १, ६) । २ चारित्र से पतित  
 (तंदु) । °इय वि [°तिग] कायोत्सर्ग  
 करनेवाला (श्रौप) । °यय न [°ययत]  
 ऊंचा स्थान (वृह ५) ।  
 ठाण न [स्थान] ? कुंकरण (कोंकरण) देश का  
 एक नगर (सिरि ६३६) । २ तेरह दिन  
 का लगातार उपवास (संवाध ५८) ।

ठाणग न [स्थानक] शरीर की चेष्टा-विशेष (पंचा १८, १५)।

ठाणि वि. [स्थानिन्] स्थानवाला, स्थान-युक्त (सूत्र १, २; उव)।

ठाणिज्ज देखो ठा।

ठाणिज्ज वि [दे] १ गौरवित, सम्मानित (दे ४, ५)। २ न. गौरव (पड)।

ठाणुकडिय } वि [स्थानोत्कटुक] १ उत्क-  
ठाणुककुडिय } टुक आसनवाला (पह २,  
१; भग)। २ न. आसन-विशेष (इक)।

ठाणु देखो खाणु। १ खंड न [खण्ड] १  
स्थाणु का अवयव। २ वि. स्थाणु की तरह  
ऊंचा और स्थिर रहा हुआ, स्तम्भित शरीर-  
वाला (गाया १, १—पत्र ६६)।

ठाम } (अप)। देखो ठाण (पिंग; सण)।  
ठाय }

ठाय पुं [स्थाय] स्थान, आश्रय (सुत्र २,  
१७)।

ठाव सक [स्थापय] स्थापन करना, रखना।  
ठावइ, ठावेइ (पि ५५३; कप्य; महा)। वक्र-  
ठावंत, ठावंत (चउ २०; सुपा ८८)। संकृ.  
ठावइत्ता, ठावेत्ता (कस; महा) कृ. ठाप्यव्व  
(सुपा ५४५)।

ठावण न [स्थापन] स्थापन, धारण (पंचा  
१३)।

ठावणया } देखो ठवणा (उप ६८६ टी; ठा  
ठावणा } १; वृह ५)।

ठावय [स्थापक] स्थापन करनेवाला (गाया  
१, १८; सुपा २३४)।

ठावर वि [स्थावर] रहनेवाला, स्थायी (अचु  
१३)।

ठाविअ वि [स्थापित] स्थापित, रखा हुआ  
(ठा ३, १; आ १२; महा)।

ठाविचु वि [स्थापयित्] ऊपर देखो (ठा  
३, १)।

ठिअअ न [दे] ऊर्ध्व, ऊंचा (दे ४, ६)।

ठिइ व्री [स्थिति] १ व्यवस्था, क्रम, मर्यादा,  
नियम; 'जयट्टिई एसा' (ठा ४, १; उप ७२८  
टी)। २ स्थान, अवस्थान (सम २)। ३  
अवस्था, दशा (जी ४८)। ४ आयु, उम्र,  
काल-मर्यादा (भग १४, ५; नव ३१; पण  
४; औप)। ५ क्लय पुं [क्षय] आयु का  
क्षय, मरण (विपा २, १)। ६ पडिया देखो  
०वडिया (कप्प)। ०वंध पुं [वन्ध]  
कर्म-वन्ध की काल-मर्यादा (कम्म ४, ८२)।  
०वडिया व्री [पतिता] पुत्र-जन्म-सम्बन्धी  
उत्सव-विशेष (गाया १, १)।

ठिक न [दे] पुण्य-चिह्न (दे ४, ५)।

ठिकरिआ व्री [दे] ठिकरी, घड़ा का टुकड़ा  
(आ १४)।

ठिय वि [स्थित] १ अवस्थित (ठा २, ४)।  
२ व्यवस्थित, नियमित (सूत्र १, ६)। ३  
खड़ा (भग ६, ३३)। ४ निपणण, वैठा हुआ  
(निचु १; प्राप्र; कुमा)।

ठिर देखो थिर (अचु १; गा १३१ अ)।

ठिविअ न [दे] १ ऊर्ध्व, ऊंचा। २ निकट,  
समीप। ३ हिक्का, हिचकी (दे ४, ६)।

ठिव्व सक [वि + घुट्] मोड़ना। संकृ.  
ठिव्विऊण (सुपा १६)।

ठोण वि [स्त्यान] १ जमा हुआ (घुत आदि)  
(कुमा)। २ ध्वनि-कारक, आवाज करने-  
वाला। ३ न. जमाव। ४ आलस्य। ५ प्रति-  
ध्वनि (हे १, ७४; २, ३३)।

ठुंठ पुंन [दे] हूँठा, हूँठ, स्थाणु (जं १)।

ठुक्क सक [हा] त्याग करना। ठुक्कइ (प्राकृ  
६३)।

ठेर पुंन [स्थविर] वृद्ध, बूढ़ा (गा ८८३  
अ, पि १६६);

'पउरजुवाणो गामो, महुमासो

जोअणं पई ठेरो।

जुएणसुरा साहीणा, असई

मा होउ कि मरउ ?'

(गा १६७)। व्री. ०री (गा ६५४ अ)।

ठोड पुं [दे] १ जोतिपी, देवज्ञ। २ पुरोहित  
(सुपा ५५२)।

॥ इअ सिरिपाइअसदमहणवम्मि ठयाराइसदसंकलणो

एण्णवीसदमो तरंगो समत्तो ॥

ड

ड पुं [ड] मूढ-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष  
(प्राप्ता; प्राप)।

डओयर न [दकोदर] पेट का रोग-विशेष,  
जलोदर (निचु १)।

डंक पुं [दे] १ डंक, वृथिक (विच्छ) आदि का  
कांडा (पह १, १)। २ दंश-स्थान, जहाँ पर

वृथिक आदि डसा हो; 'जह सव्वसरोरगयं  
विसं निहंभित्तु डंकमाणित्ति' (सुपा ६०६)।

डंकिय देखो डक = दट (वे ८६)।

डंगा व्री [दे] डंग, लाठी, यष्टि (सुपा २३८;  
३८८; ५४६)।

डंड देखो दंड (हे १, १२७; प्राप्र)।

डंड न [दे] वक्र के सीप हुए टुकड़े (दे  
४, ७)।

डंडगा व्री [दण्डका] दक्षिण देश का एक  
प्रसिद्ध अरण्य—जंगल (सुत्र)।

डंडय पुं [दे] रथ्या, महत्ता (दे ४, ८)।

डंडारण न [दण्डारण्य] दक्षिण का एक

प्रसिद्ध जंगल, दण्डकारण्य (पञ्च ६८, ४२) ।

डंडि } ली [दे] सिले हुए वन-खण्ड (दे ४, डंडी } ७; परह १, ३) ।

डंवर पुं [दे] धर्म, गरमी, प्रस्वेद (दे ४, ८) ।

डंवर पुं [डम्बर] आडम्बर, आटोप (उप १४२ टी; पिंग) ।

डंभ देखो दंभ (हे १, २१७) ।

डंभण न [दम्भन] दागने का शत्रु-विशेष (विपा १, ६) ।

डंभण न [दम्भन] बंचना, ठगाई (पव २) ।

डंभणया } ली [दम्भना] ? दागना । २

डंभणा } माया, कपट, दम्भ, वञ्चना (उप ११५; परह २, १) ।

डंभिअ पुं [दे] जुआरी, जुए का खेलाड़ी (दे ४, ८) ।

डंभिअ वि [दान्भिअ] वञ्चक, मायावी, कपटी (कुमा; पड्) ।

डंस सक [दंश] डसना, काटना । डंसड, डंसए (पड्) ।

डंस पुं [दंश] बुद्र जन्तु-विशेष, डांस, मच्छर (जी १८) ।

डंस पुं [दंश] ? दन्त-सत । २ सर्व आदि का काटा हुआ धावा । ३ दोप । ४ खंडन । ५ दाँत ६ वर्म, कवच । ७ मर्म-स्थान (प्राक् १५) ।

डंसण पुं [दंशन] वर्म, कवच; 'डंसणो' (प्राक् १५) ।

डक वि [दट] डसा हुआ, दाँत से काटा हुआ (हे २, २; गा ५३१) ।

डक वि [दे] दन्त-गृहीत, दाँत से उपात (दे ४, ६) ।

डक लीन [डक] वाद्य-विशेष (सुपा १६५) ।

डकुरिजंत वक्र [दे] पीडित होता हुआ (सूत्र० चू० गा० ३१५) ।

डगण न [दे] यान-विशेष (राज) ।

डगमग अक [दे] चलित होना, हिलना, कांपना । डगमगति (पिंग) ।

डगल न [दे] ? फल का टुकड़ा (निचू १५) ।

२ ईट, पाषाण वगैरह का टुकड़ा (श्रघ ३५६; ७८ ना) ।

डगल पुं [दे] धर के ऊपर का भूमि-तल, द्यत (दे ४, ८) ।

डङ्क }  
डङ्कंत } देखो डह ।  
डङ्कमाण }

डट्ट देखो डक = दट्ट (हे १, २१७) ।

डड्ड वि [दग्ध] प्रज्वलित, जला हुआ (हे १, २१७; गा १४६) ।

डड्डाडी ली [दे] दग्ध-भाग, आग का रास्ता (दे ४, ८) ।

डणफ न [दे] सेल, कुन्त, माला, बरछी, आयुध-विशेष (दे ४, ७) ।

डणभ पुं [दभ] डान, कुश, तृण-विशेष (हे १, २१७) ।

डमडम अक [डमडमाय्] 'डम-डम' आवाज करना, डमरू आदि का आवाज होना । वक्र, डमडमंत (सुपा १६३) ।

डमडमिय वि [डमडमायित] जिसने 'डम-डम' आवाज किया हो वह (सुपा १५१, ३३८) ।

डमर पुंन [डमर] ? राष्ट्र का भीतरी या बाह्य विप्लव, बाहरी या भीतरी उपद्रव (साया १, १; जं २; पव ४; श्रौप) । २ कलह, लड़ाई, विग्रह (परह १, २; दे ८, ३२) ।

डमरूअ } पुंन [डमरूक] वाद्य-विशेष,  
डमरूग } कापालिक योगियों के बजाने का वाजा, डमरू (दे २, ८६; पञ्च ५७, २३; सुपा ३०६; पड्) ।

डर अक [डरस्] डरना, भय-भीत होना । डरइ (हे ४, १६८) ।

डर पुं [डर] डर, नय, भीति (हे १, २१७; सण) ।

डरिअ वि [डरस्त] भय-भीत, डरा हुआ (कुमा; सुपा ६५५; सण) ।

डल पुं [दे] लोष्ट, मिट्टी का डेला (दे ४, ७) ।

डल सक [पा] पीना । डलइ (हे ४, १०) ।

डल्ल } न [दे] पिटिका, डाला, डाली, वास  
डल्लग } का बना हुआ फल-पूल रखने का पात्र (दे ४, ७; आनम) ।

डल्ला ली [दे] डाला, डाली (कृष २०६) ।

डल्लिर वि [पाट्] पीनेवाला (कुमा) ।

डव सक [आ + रभ्] आरम्भ करना, शुरू करना । डवइ (पड्) ।

डवडव अ [दे] ऊँचा मुँह कर के वेग से डवर-डवर गमन (चंड) ।

डव्व पुं [दे] वान हस्त, बायाँ हाथ; गुजराती में 'डवो' (दे ४, ६) ।

डस देखो डंस । डसइ (हे १, २१८; पि २२२) । हेक्. डसिडं (सुर २; २४३) ।

डसण न [दशन] ? दंश, दाँत से काटना (हे १, २१७) । २ दाँत (कुमा) ।

डसण वि [दशन] काटनेवाला (सिरि ६२०) ।

डसिअ वि [दट्ट] डसा हुआ, काटा हुआ (सुपा ४४६; सुर ६, १८५) ।

डह सक [दह्] जलाना, दग्ध करना । डहइ, डहए (हे १, २१८; पड्; महा; उव) । भवि. डहिहिइ (हे ४, २४६) । कवक. डङ्कंत, डङ्कमाण (सम १३७; उप १३३; सुपा ८५) । हेक्. डहिडं (पञ्च ३१, १७) । क. डङ्क (डा ३, २; दस १०) ।

डहण न [दहन] ? जलाना, भस्म करना (वृह १) । २ पुं. अग्नि, वहि, आग (कुमा) । ३ वि. जलानेवाला; 'तस्त सुहासुहडहणो अप्पा जलणो पयानेइ' (आरा ८४) ।

डहर पुं [दे] ? शिशु, बालक, बच्चा (दे ४, ८; पात्र; वव ३; दस ६, १; सूत्र १, २, १; २, ३, २१; २२; २३) । २ वि. लघु, छोटा, बुद्र (श्रघ १७८; २६० भा) । गंगाम पुं [ग्राम] छोटा गाँव (वव ७) ।

डहरक पुं [दे] बुद्ध-विशेष । २ पुण्य-विशेष; 'डहरककुल्लणुरत्ता भुंजती तप्फलं मुणसि' (धर्मवि ६७) ।

डहरिया ली [दे] जन्म से अठारह वर्ष तक की लड़की (वव ४) ।

डहरी ली [दे] अलिखर, मिट्टी का घड़ा (दे ४, ७) ।

डाअल न [दे] लोचन, आँख, नेत्र (दे ४, ६) ।

डाङ्णी ली [डाङ्गिनी] ? डाङ्गिनी, डायन, चुड़ैल, प्रतिनी । २ जंतर मंतर जाननेवाली ली (परह १, ३; सुपा ५०५; स ३०७; महा) ।

डाउ पुं [दे] ? फलिहंसक वृक्ष, एक जाति का पेड़ । २ गणपति की एक तरह की प्रतिमा (दे ४, १२) ।

डाग पुंन [दे] भाजी, पत्राकार तरकारी (भग ७, १०२; दसा १; पत्र २)।

डाग न [दे] डाल, शाखा (आचा २, १०; २)।  
डागिणी देखो डाइणी (१, ३, ४)।

डामर वि [डामर] भयंकर, 'डमडमियडमव्या-  
डोवडामरो' (सुपा १५१)। २ पुं, स्वनाम-  
ध्यात एक जैन मुनि (पठम २०, २१)।

डामरिय वि [डामरिक] लड़ाई करनेवाला,  
विग्रह-कारक (पणह १, २)।

डाय न [दे] देखो डाग (राज)।

डायाल न [दे] हर्म्य-तल, प्रासाद भूमि,  
छत (आचा २, २, १)।

डाल बीन [दे] १ डाल, शाखा, टहनी (सुपा  
१४०; पंचा १६; हे ४, ४४५)। २ शाखा  
का एक देश (आचा २, १, १०)। बी.  
'ला (महा; पात्र; वज्रा २६), 'ली (दे ४,  
६; पत्र १०; सण; निचू १)।

डाय पुं [दे] वाम हस्त, बाया हाथ, गुजराती  
में 'डायो' (दे ४, ६)।

डाह देखो दाह (हे १, २१७; गा २२६;  
५३५; कुमा)।

डाहर पुं [दे] देश-विशेष (पिंग)।

डाहाल पुं [दे] देश-विशेष (सुपा २६३)।

डाहिण देखो दाहिण (गा ७७७; पिंग)।

डिअली बी [दे] स्त्रुण, खना; खूँटी (दे ४,  
६)।

डिडव वि [दे] जल में पतित (पड)।

डिडि पुं [दण्डिन्] राजकर्मचारी-विशिष्ट  
अधिकार-संपन्न (भव० वृ० कथा पत्र-४७०;  
श्लोक ४)।

डिडिम न [डिण्डिम] डुगडुगी, डुगी, वाद्य-  
विशेष (सुर ६; १५१)।

डिडिम न [डिण्डिम] कासे का पात्र (आचा  
२, १, ११, ३)।

डिडिअन न [दे] १ खलि-खचित वक्र, तेल-  
विट्ट से व्याप्त कपड़ा। २ खलित हस्त (दे  
४, १०)।

डिडि बी [दे] सिले हुए वक्र-खण्ड (दे ४,  
७)। १ वंघ पुं [वन्घ] गर्म-संभव (निचू  
११)।

डिडीर पुंन [डिण्डीर] समुद्र का फेन, समुद्र-  
कफ (उप ७२५ टी; सुपा २२२)।

डिंडुयाण न [डिण्डुयाण] नगर-विशेष (कुप्र  
१५)।

डिंफिअ वि [दे] जल-पतित, पानी में गिरा  
हुआ (दे ४, ६)।

डिंघ पुंन [डिंघ] १ भय, डर (से २, १६)।  
२ विघ्न, अन्तराय (साया १, १—पत्र ६;  
श्रीप)। ३ विप्लव, डमर (जं २)।

डिंघ पुं [डिंघ] शत्रु-सैन्य का भय, पर-चक्र  
का भय (सुप्र २, १, १३)।

डिंभ अक [संस्] १ नीचे गिरना। २  
ध्वस्त होना, नष्ट होना। डिंभइ (हे ४, १६७;  
पड)। वक्र. डिंभंत (कुमा ७, ४२)।

डिंभ पुंन [डिंभ] बालक, बच्चा, शिशु  
(पात्र; हे १, २०२; महा; सुपा १६); 'अह  
दुक्खियाइ तह बुक्खियाइ जह चितियाइ  
डिंभाइ' (विने १११)।

डिंभिया बी [डिंभिअ] छोटी लड़की  
(साया १, १५)।

डिंअ अक [गर्ज] साँड़ का गरजना।  
डिंअइ (पड)।

डिंडुर पुं [दे] भेक, मण्डूक, मेड़क, वेग (दे ४,  
६)।

डिट्थ पुं [डिट्थ] १ काष्ठ का बना हुआ  
हाथी। २ पुण्य-विशेष, जो श्याम, विद्वान्,  
सुन्दर, युवा और देखने में प्रिय हो ऐसा पुण्य  
(भास ७७)।

डिप्प अक [दीप्] दोपना, चमकना।  
डिप्पइ, डिप्पए (पड)।

डिप्प अक [वि+गल्] १ गल जाना, सड़  
जाना। २ गिर पड़ना। डिप्पइ; डिप्पए  
(पड)।

डिमिल न [दे] वाद्य-विशेष (विक्र ५७)।

डिही बी [दे] जल-जन्तु-विशेष (जीव १)।

डिंघ सक [डिंघ] उल्लंघन करना। डिंघ (वव  
१)।

डीण वि [दे] अवतीर्ण (दे ४, १०)।

डीणोवय न [दे] उपरि, ऊपर (दे ४, १०)।

डीर न [दे] कपल, नवीन अंकुर (दे ४, १०)।

डुंगर पुं [दे] शैल, पर्वत, गुजराती में 'डुंगर'  
(दे ४, ११; हे ४, ४४५; जं २)।

डुंघ पुं [दे] नारियल का बना हुआ पात्र-

विशेष, जो पानी निकालने के काम में आता  
है (दे ४, ११)।

डुंडुअ पुं [दे] १ पुराना घण्टा (दे ४, ११)।  
२ बड़ा घण्टा (गा १७२)।

डुंडुका बी [दे] वाद्य-विशेष (विक्र ५७)।

डुंडुअ अक [अम्] धूमना, फिरना, चक्र  
लगाना। डुंडुअइ (पड)।

डुंघ पुं [दे] डोम, चाण्डाल, धपच (दे ४,  
११; २, ७३; ७; ७६)। देखो डोंव (पत्र ६)।

डुज्जय न [दे] कपड़े का छोटा गट्टा, वक्र-  
खण्ड; 'त्तिविउं वयणम्मि डुज्जयं अहयं, वद्धा  
स्सखस्स धुडे' (सुपा ३६६)।

डुल अक [दोलय्] डोलना, कांपना, हिलना।  
डुलइ (पिंग)।

डुलि पुं [दे] कच्छप, कछुआ (उप पृ १३६)।

डुहुडुहुहुइ अक [डुहुडुहाय्] 'डुह-डुह'  
आवाज करना, नदी के वेग का ललखलाना।  
वक्र. 'डुहुडुहुहुइंतनइसलिलं' (पठम ६४,  
४३)।

डेकुण पुं [दे] मत्कुण, खटमल, धुद्र कीट-  
विशेष (पड)।

डेडु डुर पुं [दे] वडुंर, भेक, मण्डूक, मेड़क,  
वेग (पड)।

डेर वि [दे] केकटाक्ष, नीची-ऊँची आंखवाला  
(पिंग)।

डेय सक [डिप्] उल्लंघन करना, कूद  
जाना, अतिक्रमण करना। वक्र. डेवमाण  
(राज)।

डेवण न [डेपन्] उल्लंघन, अतिक्रमण (श्रीघ  
३६)।

डोअ पुं [दे] काष्ठ का हाया, दाल, शाक  
आदि परोसने का काष्ठ पात्र-विशेष; गुजराती  
में 'डायो' (दे ४, ११; महा)।

डोअण न [दे] लोचन, आंख (दे ४, ६)।

डोंगर देखो डुंगर (श्रीघमा २० टी)।

डोंगिली बी [दे] १ ताम्बूल रखने का भाजन-  
विशेष। २ ताम्बूलिनी, पान बेचनेवाले की  
बी, तमोलिन (दे ४, १२)।

डोंगी बी [दे] १ हस्तविम्ब, स्यासक। २  
पान रखने का भाजन-विशेष (दे ४, १३)।

डोंव पुं [दे] १ म्लेच्छ देश-विशेष। २ एक



म्लेच्छ-जाति, डोम (परह १, १; इक; पव ६) । ३ देखो डुंन (पाग्र) ।  
 डोंविल्ला पुं [दे] १ म्लेच्छ देश-विशेष । २ डोंविल्लय एक अनार्य जाति (परह १, १; इक) । ३ डोम, चाण्डाल (स २८६) ।  
 डोक्करी स्त्री [दे] वृद्धी स्त्री (कुप्र ३५३) ।  
 डोड पुं [दे] ब्राह्मण, विप्र (सुख ३, १) ।  
 डोडिणी स्त्री [दे] ब्राह्मणी (अनु० ६९ सूत्र) ।  
 डोडिणी स्त्री [दे] ब्राह्मणी (अणु ४६) ।  
 डोड्डु पुं [दे] एक मनुष्य-जाति, ब्राह्मण; 'विद्वो तत्क्षणाजिमिग्रो निग्गच्छंतो बहिं डोड्डो; तो तस्सुदरं फालिग्रं' (उप १३६ ठी) ।  
 डोर पुं [दे] डोर, गुण, रस्ती (गा २११; वजा ६६) ।  
 डोल ग्रक [दोल्य्] १ डोलना, हिलना,

मूलना । २ संशयित होना, सन्देह करना । वक्र. डेलंत (अच्यु ६०) ।  
 डोल पुं [दे] १ लोचन, श्राल, नयन; गुजराती में 'डोलो'; (दे ४, ६) । २ जन्तु-विशेष (वृह १) । ३ फल-विशेष (पंचव २) ।  
 डोल पुं [दे] चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (उत्त ३६, १४८; सुख ३६, १४८) ।  
 डोला स्त्री [दोला] हिंडोला, मूलना या मूला (हे १, २१७; पाग्र) ।  
 डोला स्त्री [दे] डालो, शिबिका, पालकी (दे ४, ११) ।  
 डोलाअंत वि [दोलायमान] संशय करने-वाला, डँवाडोल (अच्यु ७) ।  
 डोलाइअ वि [दोलायित] संशयित, डँवाडोल; 'मडस्स डोलाइअं हिग्रं' (गा ६६६) ।

डोलायमाण देखो डोलाअंत (निचू १०) ।  
 डोलायि वि [दोलित] कम्पित, हिलाया हुआ (पउम ३१, १२४) ।  
 डोलिअ पुं [दे] कृष्णसार, काला हिरन (दे ४, १२) ।  
 डोलिअ वि [दोलायन्] डोलनेवाला, कांपने-वाला; 'दरडोलिरसीसं' (कुमा) ।  
 डोहणग पुं [दे] पानी में होनेवाला जन्तु-विशेष (सूय २, ३) ।  
 डोव [दे] देवों डोव (एदि; उा ४ २१०) ।  
 डॉ. वा (पभा २७) ।  
 डोमिणी स्त्री [दे] ज्योत्स्ना, चन्द्र-प्रकाश, चांदनी (पड) ।  
 डोहल पुं [दोहद] १ गर्मिणी स्त्री का अभिलाष । मनोरथ, लालसा (हे १, २१७; कुमा) ।

॥ अत्र सिरिपाइअसदमहणवमि डयाराइसदसंकलणो  
 वीसइमो तरंगो समतो ॥

## ढ

ढ पुं [ढ] व्यञ्जन वर्ण-विशेष, यह मूढंन्य है, क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है (प्राभा; प्राप) ।  
 ढंक पुं [दे] काक, वायस, कौआ (दे ४, १३; जं २; प्राप; सण; भवि; पाग्र) ।  
 ँवस्थुल न [वास्तुल] शाक विशेष, एक तरह की भाजी या तरकारी (घमं २) ।  
 ढंक पुं [ढङ्क] कुम्भकार-जातीय एक जैन उपासक (विसे २३०७) ।  
 ढंक देखो ढक । भवि. ढंकिस्सं (पि २२१) ।  
 ढंकण न [दे. छादन] १ ढकना, पिघान (प्रासु ६०; अणु) ।  
 ढंकण देखो ढिंकुण (राज) ।  
 ढंकणी स्त्री [दे. छादनी] ढकनी, पिघानिका, ढकने का पात्र-विशेष (दे ४, १४) ।  
 ढंकिअ देखो ढकिअ (सिरि ५२६) ।

ढंकुण पुं [दे] मत्कुण, खटमल (दे ४, १४) ।  
 ढंकुण पुं [ढङ्कुण] वाद्य-विशेष (आचा २, १११) ।  
 ढंख देखो ढंख = (दे) (पि २१३; २२३) ।  
 ढंखर पुं न [दे] फल पत्र से रहित डाल, 'ढंखरसेसोवि हु महुरेण मुक्को ए मालई-विडवो' (गा ७५५; वजा ५२) ।  
 ढंखरअ [दे] डेला । गु० डेखारा (आख्या-नकम० को० नागश्री आख्यानक पत्र—४ पद्य ६१) ।  
 ढंखरी स्त्री [दे] वीणा-विशेष, एक प्रकार की वीणा (दे ४, १४) ।  
 ढंड पुं [दे] १ पंक, कीच, कदम, कादो (दे ४, १६) । २ वि. निरर्थक, निकम्मा (दे ४, १६; भवि) ।

ढंड पुं [ढण्डण] एक जैन महर्षि, ढण्डण ऋषि (सुख २, ३१) ।  
 ढंड वि [दे] दाम्भिक, कपटी (सम्मत् ३१) ।  
 ढंडण पुं [ढण्डन] स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि (विवे ३२; पडि) ।  
 ढंडणी स्त्री [दे] कपिकच्छु, केवाच, वृक्ष-विशेष (दे ४, १३) ।  
 ढंडर पुं [दे] १ पिशाच । २ इर्ष्या (दे ४, १६) ।  
 ढंडरिअ पुं [दे] कदम, पंक, कादा, कादो (दे ४, १५) ।  
 ढंडल्ल सक [अम्] धूमना, फिरना, भ्रमण करना । ढंडल्लइ (हे ४, १६१) ।  
 ढंडल्लिअ वि [आन्त] आन्त, धूमा हुआ (कुमा) ।

दंडसिअ पुं [दे] १ ग्राम का यज्ञ । २ गांव का वृक्ष (दे ४, १५) ।  
 दंडुल्ल देखो दंडल्ल । दंडुल्लइ (सण) ।  
 दंडोल सक [गवेपय] खोजना, अन्वेषण करना । दंडोलइ (हे ४, १८) । संकृ. दंडोलिअ (कुमा) ।  
 दंडोल्ल देखो दुंडुल्ल । संकृ. दंडोल्लिवि (सण) ।  
 दंस अक [वि + वृत्] घसना, घसकर रहना, गिर पड़ना । दंसइ (हे ४, ११८) । वकृ. दंसमाण (कुमा) ।  
 दंसय न [दे] अथ, अपकीर्ति (दे ४, १४) ।  
 दक्क सक [छाद्य] १ टकना, आच्छादन करना, बन्द करना । दक्कइ (हे ४, २१) । भवि. दक्कस्स (गा ३१४) । कर्म. 'दक्कज्जउ क्कवाइ' (सुर १२, १०२) । संकृ. 'तय दक्किकउं दारं', दक्किकऊण, दक्किकऊण (सुपा ६४०; महा: पि २२१) । कृ. दक्किकयव (दस २) ।  
 दक्क पुं [दक्क] १ देश-विशेष । २ देश-विशेष में रहनेवाली एक जाति (भवि) । ३ भाट की एक जाति (उप पृ ११२) ।  
 दक्कय न [दे] तिलक (दे ४, १४) ।  
 दक्करि वि [दे] अद्भुत, आश्चर्य-जनक (हे ४, ४२२) ।  
 दक्कयत्थुल देखो दंक्कयत्थुल (पव ४) ।  
 दक्का ली [दक्का] वाद्य-विशेष, डंका, नगाडा, डमरु (गा ५२६; कुमा; सुपा २४२) ।  
 दक्किअ वि [छादित] बन्द किया हुआ, आच्छादित (स ४६६; कुमा) ।  
 दक्किअ न [दे] बैल की गर्जना (अणु २१२; सुव ६, १) ।  
 दग्गदग्गा-ली [दे] 'दग्-दग्' आवाज, पानी वगैरह पीने की आवाज; 'सोणियं दग्गदग्गाए पाट्टयंतो' (स २५७) ।  
 दड्जंत देखो दड्जंत (पि: २१२; २१६) ।  
 दड्ड पुं [दे] भेरी, वाद्य-विशेष (दे ४, १३) ।  
 दड्डर पुं [दे] राहु (सुज्ज २०) ।  
 दड्डर पुं [दे] १ बड़ी आवाज, महान् ध्वनि (श्रौष १५६) । २ न. सुत्त-वन्दन का एक

दोष, बड़े स्वर से प्रणाम करना (सुभा २५) ।  
 ३ वि. वृद्ध, वृद्धा; 'दड्डर-सड्डाए मग्गेण' (सायं ३८) ।  
 दणिय वि [ध्वनित] शब्दित, ध्वनित (सुर १३, ८४) ।  
 दमर न [दे] १ पिठर, स्थाली या थाली (दे ४, १७; पात्र) । २ गरम पानी, उष्ण जल (दे ४, १७) ।  
 दयर पुं [दे] १ पिशाच (दे ४, १६; पात्र) । २ ईर्ष्या, द्वेष (दे ४, १६) ।  
 दल अक [दे] टपकना, नीचे पड़ना, गिरना । २ झुकना । वकृ. दलंत (कुमा); 'दलंतसेयचामस्सीलो' (उप ६८६ टी) ।  
 दलिय वि [दे] झुका हुआ (उप पृ ११८) ।  
 डाल सक [दे] १ डालना, नीचे गिराना । २ झुकाना, चामर वगैरह का धाजना । डालए (सुपा ४७) ।  
 डलहलय वि [दे] मृदु, कोमल, मुलायम (वजा ११४) ।  
 डलिय वि [दे] गिरा हुआ, स्वलित (वजा १००) ।  
 डालिअ वि [दे] नीचे गिराया हुआ, 'सीसाओ डालिओ सूरु' (सुर ३, २२८) ।  
 डाय पुं [दे] आग्रह, निर्वन्ध (कुमा) ।  
 डिक पुं [डिङ्क] पक्षि-विशेष (परह १, १—पत्र ८) ।  
 डिकण पुं [दे] बुद्ध जन्तु-विशेष, नौ डिङ्कण } आदि को लगनेवाला कीट-विशेष (राज; जी १८) ।  
 डिकलीआ ली [दे] पात्र-विशेष (सिरि ४२६) ।  
 डिंग देखो डिक (राज) ।  
 डिण्डय वि [दे] जल में पतित (दे ४, १५) ।  
 डिकक अक [गर्ज] साँड़ का गरजना । डिककइ (हे ४, ६६) । वकृ. डिककमाण (कुमा) ।  
 डिककय न [दे] नित्य, हमेशा, सदा (दे ४, १५) ।  
 डिकिकय न [गर्जन] साँड़ की गर्जना (महा) ।  
 डिडिडस न [डिडिडस] देव-विमान-विशेष (इक) ।

डिल्ल वि [दे] डौला, स्थित (पि १५०) ।  
 डिल्ली ली [डिल्ली] भारतवर्ष की प्राचीन और अद्यतन राज-धानी, दिल्ली शहर (पिग) ।  
 नाह पुं [नाथ] दिल्ली का राजा (कुमा) ।  
 दुंडुल सक [भ्रम्] धूमना, फिरना, चलना । दुंडुलइ (हे ४, १६१) । दुंडुल्लन्ति (कुमा) ।  
 दुंडुल सक [गवेपय] हूँदना, खोजना, अन्वेषण करना । दुंडुलइ (हे ४, १८) ।  
 दुंडुल्लग न [गवेपय] खोज, अन्वेषण (कुमा) ।  
 दुंडुल्लिअ वि [गवेपित] अन्वेषित, हूँदा हुआ (पात्र) ।  
 दुक्क सक [डौक्] १ भेंट करना, अर्पण करना । २ उपस्थित करना । ३ अक. लगना, प्रवृत्ति करना । ४ मिलना । वकृ. दुक्कंत (पिग) । कवकृ. दुक्कंत (उप ६८६ टी; पिग) ।  
 दुक्क सक [प्र + विश] दुकना, धुसना, प्रवेश करना । दुक्कइ (प्राक् ७४) ।  
 दुक्क वि [दे. डौकित] १ उपस्थित, हाजिर (स २५१) । २ मिलित (पिग) । ३ प्रवृत्त; 'चित्तिउं दुक्को' (श्रा २७; सण; भवि) ।  
 दुक्कलुक्क न [दे] चमड़े से मड़ा हुआ वाद्य-विशेष (सिरि ४२६) ।  
 दुक्किअ वि [डौकित] ऊपर देखो (पिग) ।  
 दुम } सक [भ्रम्] भ्रमण करना, धूमना ।  
 दुस } दुमइ; दुसइ (हे ४, १६१; कुमा) ।  
 दुरुल्ल देखो दुंडुल्ल = भ्रम् । वकृ. दुरुल्लंत (वजा १२८) ।  
 डेंक पुं [डेङ्क] एक जल-पत्ती, पक्षि-विशेष (वजा ३४) ।  
 डेंका ली [दे] १ हर्ष, खुशी । २ डेंकुवा, डेंकली, कूप-तुला (दे ४, १७) ।  
 डेंकिय देखो डिकिकय (राज) ।  
 डेंकी ली [दे] बलाका, वक-पंक्ति (दे ४, १५) ।  
 डेंकुग पुं [दे] मत्कुण, खटमल (दे ४, १४) ।  
 डेंडिअ वि [दे] धूपित, धूप दिया हुआ (दे ४, १६) ।  
 डेणियाल्ल } पुं ली [डेणियाल्ल] पक्षि-  
 डेणियालय } विशेष (परह १, १) । ली.   
 ँलिया (अनु ४) ।  
 डेह वि [दे] निर्धन, दरिद्र (दे ४, १६) ।  
 डोअ देखो दुक्क = डौक । डोएज्जह (महा) ।

ढोइय वि [ढौकित] १ भेंट किया हुआ। २ उपस्थित किया हुआ (महा; सुपा १६८; भवि)।  
ढौंघर वि [दे] भ्रमण-शील, घुमकड़, घूमनेवाला (दे ४, १५)।  
ढोयण देखो ढोवण (देइय ५२; कुप्र १६८)।

ढोयणिया स्त्री [ढौकनिका] उपहार, भेंट (धर्मवि ७१)।  
ढोल्ल पुं [दे] प्रिय, पति (संज्ञि ४७; हे ४, ३३०)।  
ढोल्ल पुं [दे] १ ढोल, पट्टह। २ देश-विशेष, जिसकी राजधानी धौलपुर है (पिंग)।

ढोवण } न [ढौकन, क] १ भेंट करना,  
ढोवणय } अर्पण करना (कुमा)। २ उपहार,  
भेंट (सुपा २८०)।  
ढोविय वि [ढौकित] उपस्थापित, उपस्थित  
किया हुआ (स ५०८)।

॥ इअ सिरिपाइअसद्महण्णवम्मि ढयाराइसद्संकलणो  
एककवीसइमो तरंगो समत्तो ॥

## रा तथा न

ण पुं [ण, न] व्यञ्जन वर्ण-विशेष, इसका उच्चारण-स्थान मूर्धा है, इससे यह मूर्द्धन्य कहाता है (प्राप, प्रामा)।  
ण अ [न] निपेधार्थक अव्यय, नहीं, मत (कुमा; गा २; प्रासू १५६)। °उण, °उणा, °उणाइ, °उणो अ [पुनः] न तु; नहीं कि (हे १, ६५; पड्)। °संतिपरलोगवाइ वि [शान्तिपरलोकवादिन्] मोक्ष और परलोक नहीं है ऐसा माननेवाला (ठा न)।  
ण स [तन्] वह (हे ३, ७०; कुमा)।  
ण स [इदम्] यह, इस (हे ३, ७७; उप ६६०; गा १३१; १६६)।  
ण वि [ज्ञ] जानकार, परिउत, विचक्षण (कुमा २, ८८)।  
णअ देखो णय = नव (गा १०००; नाट—चैत ४२)। °दीअ पुं [°दीप] बंगाल का एक विस्वात नगर, जो न्याय-शास्त्र का केन्द्र गिना जाता है, जिसको आजकल 'नदिया' कहते हैं (नाट—चैत १२६)।  
णअंघर देखो णत्तंघर (चंड)।  
णइ स्त्री [नति] १ नमन, नम्रता। २ अवसान, अन्त (राय ४६)।  
णइ अ. १ निव्य-सूचक अव्यय, 'गईए एइ' (हे २, १८४; पड्)। २ निपेधार्थक अव्यय; 'नइ माया नेय पिया' (सुर ३, २०६)।

णइ° देखो णई (गउड; हे २, ६७; गा १६७; सुर १३, ३५)।  
णइअ वि [नयिक] नय-युक्त, अग्निप्राय-विशेष-वाला (सम ४०)।  
णइअ देखो णी = नी।  
णइमासय न [दे] पानी में होनेवाला फल-विशेष (दे ४, २३)।  
णइराय न [नौरात्म्य] आत्मा का अभाव। °वाद पुं [°वाद] आत्मा के अस्तित्व को नहीं माननेवाला दर्शन, बौद्ध तथा चावक मत (धर्मसं ११८५)।  
णई स्त्री [नदी] नदी, पर्वत आदि से निकला वह स्रोत जो समुद्र या बड़ी नदी में जाकर मिले (हे १, २२६; पाअ)। °कच्छ पुं [°कच्छ] नदी के किनारे पर की झाड़ी (साया १, १)। °गाम पुं [°ग्राम] नदी के किनारे पर स्थित गाँव (प्राप)। °गाह पुं [°नाथ] समुद्र, सागर (उप ७२८ टी)। °वइ पुं [°पति] समुद्र, सागर (परह १, ३)। °संतार पुं [°संतार] नदी उतरना, जहाज आदि से नदी पार जाना (राज)। °सोत्त पुं [°स्रोतस्] नदी का प्रवाह (प्राप; हे १, ४)।  
णउ (अप) देखो इव (कुमा)।  
णउअ न [नयुत] 'नयुतांग' को चौरासी

लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह (ठा २, ४; इक)।  
णउअंग न [नयुताङ्ग] 'प्रयुत' को चौरासी से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह (ठा २, ४; इक)।  
णउइ स्त्री [नवति] संख्या-विशेष, नव्हे, ६० (सम ६४)।  
णउइय वि [नवत] ६० वां (पउम ६०, ३१)।  
णउल पुं [नकुल] १ न्योला, नेवला (परह १, १; जी २२)। २ पचिवां पाएउव (साया १, १६)।  
णउल पुं [नकुल] वाद्य-विशेष (राय ४६)।  
णउली स्त्री [नकुली] एक महौपधि (ती ५)।  
णउली स्त्री [नकुली] विद्या-विशेष, सर्प-विद्या की प्रतिपक्ष विद्या (राज)।  
णं अ [दे] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ प्ररन। २ उपमा (प्राक ७६)।  
णं अ. १ वाक्यालंकार में प्रयुक्त किया जाता अव्यय (हे ४, २८३; उवा; पडि)। २ प्ररन-सूचक अव्यय, ३ स्वीकार-द्योतक अव्यय (राज)।  
णं (सौ) देखो णणु (हे ४, २८३)।  
णं (अप) देखो इव (हे ४, ४४४; भवि; सण; पडि)।

पंगअ वि [दे] रूढ, रोका हुआ (पङ्) ।  
 पंगर पुं [दे] लंगर, जहाज को जल-स्थान में धामने के लिए पानी में जो रस्सी आदि डाली जाती है वह (उप ७२८ टी; सुर १३, १६३; स २०२) ।  
 पंगर } न [लाङ्गल] हल, जिससे खेत जोता  
 पंगल } और बोया जाता है (पउम ७२, ७३; पएह १, ४; पाग्र) ।  
 पंगल पुंन [दे] चञ्चु, चाँच, चोंच; 'जडाउणो रूढो । नहणंगलेसु पहरद, दसाणणं विउल-वच्छयले' (पउम ४४, ४०) ।  
 पंगल पुंन [लाङ्गल] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३३) ।  
 पंगलि पुं [लाङ्गलिन्] बलमद्रः हली (कुमा) ।  
 पंगलिय पुं [लाङ्गलिक] हल के आकारवाले शस्त्र-विशेष को धारण करने वाला सुभट (कप्प; औप) ।  
 पंगूल न [लाङ्गूल] पुच्छ, पूँछ (ठा ४, २; हे १, २५६) ।  
 पंगूलि वि [लाङ्गूलिन्] १ लम्बी पूँछवाला २ पुं. बानर, बन्दर (कुमा) ।  
 पंगूलि देवो पंगोलि (पव २६२) ।  
 पंगोलि देवो पंगूल (णाय १, ३; पि १२७) ।  
 पंगोलि } पुं [लाङ्गूलिन्, °क] १ अन्त-  
 पंगोलिय } द्वीप-विशेष । २ उसका निवासी मनुष्य (पि १२७; ठा ४, २) ।  
 पंगत न [दे] बल, कपड़ा (कस; आब ५) ।  
 पंग अक [नन्द] १ खुश होना, आनन्दित होना । २ समृद्ध होना । एंदि, एंदि (पङ्) ।  
 क्वकः पंगिजमाण (औप) । क्व. पंगि-अव्व, पंगिअव्व (पङ्) ।  
 पंग पुं [नन्द] १ स्वनाम-प्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर का एक राजा (मुद्रा १६८; एंदि) । २ भरत-क्षेत्र के भावी प्रथम वासुदेव (सम १५४) । ३ भरत-क्षेत्र में होने वाले नववें तीर्थंकर का पूर्व-भवीय नाम (सम १५४) । ४ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि (पउम २०, २०) । ५ स्वनाम-ख्यात एक श्रेष्ठी (सुपा ६३८) । ६ न. देव-विमान-विशेष (सम २६) । ७ लोहों का एक प्रकार का वृत्त आसन (णाय १, १—पत्र ४३ टी) । ८. वि. समृद्ध होने

वाला (औप) । °कंत न [°कान्त] देव-विमान-विशेष (सम २६) । °कूड न [°कूट] एक देव-विमान (सम २६) । °कफ्य न [°क्यज] एक देव-विमान (सम २६) । °प्पभ न [°प्रभ] देव-विमान-विशेष (सम २६) । °मई ली [°मती] एक अन्तकृत साध्वी (अन्त २५; राज) । °मित्त पुं [°मित्र] भरतक्षेत्र में होने वाला द्वितीय वासुदेव (सम १५४) । °लोस न [°लोस्य] एक देव-विमान (सम २६) । °वई ली [°वती] १ सातवें वासुदेव की माता (पउम २०, १८६) । २ रतिकर पर्वत पर स्थित एक देव-नगरी (वीव) । °वण न [°वर्ण] देव-विमान-विशेष (सम २६) । °सिंग न [°शृङ्ग] एक देवविमान (सम २६) । °सिद्ध न [°सुष्ट] देव-विमान-विशेष (सम २६) । °सिरी ली [°श्री] स्वनाम-ख्यात एक श्रेष्ठि-कन्या (ती ३७) । °सेणिया ली [°सेनिका] एक जैन साध्वी (अंत २५) ।  
 पंग पुं [नन्द] गोप-विशेष, श्रीकृष्ण का पालक गोपाल (वजा १२२) ।  
 पंग पुंली [नन्दा] पक्ष की पहली (प्रतिपदा), पक्षी और एकादशी तिथि (सुज १०, १५) ।  
 पंग न [दे] १ ऊख पीलने या फेरने का काण्ड । २ कुण्ड, पात्र-विशेष (दे ४, ४५) ।  
 पंग पुं [नन्दक] वासुदेव का खड्ग (पएह १, ४) ।  
 पंग पुं [नन्दन] १ पुत्र, लड़का (गा ६०२) । २ राम का एक स्वनाम-ख्यात सुभट (पउम ६७, १०) । ३ स्वनाम-ख्यात एक बलदेव (सम ६३) । ४ भरतक्षेत्र का भावी सातवाँ वासुदेव (सम १५४) । ५ स्वनाम-प्रसिद्ध एक श्रेष्ठी (उप ५५०) । ६ श्रेष्ठिक राजा का एक पुत्र (निर १, २) । ७ मेरु पर्वत पर स्थित एक प्रसिद्ध वन (ठा २, ३; इक) । ८ एक चैत्य (भग ३, १) । ९ वृद्धि (पएह १, ४) । १० नगर-विशेष (उप ७२८ टी) । °कर वि [°कर] वृद्धि-कारक । °कूड न [°कूट] नन्दन वन का शिखर (राज) । °मद्द पुं [°मद्र] एक जैन मुनि (कप्प) । °वण न [°वन] १ स्वनाम-ख्यात एक वन जो मेरु

पर्वत पर स्थित है (सम ६२) । २ उद्यान-विशेष (निर १, ५) ।  
 पंग पुं [दे] भृत्य, नौकर, दास (दे ४, १६) ।  
 पंग पुंन [नन्दन] एक देव-विमान (देवेन्द्र १४३) । २ न. संतोष (एंदि ४५) ।  
 पंगणा ली [नन्दना] लड़की, पुत्री (पाग्र) ।  
 पंगणी ली [नन्दनी] पुत्री, लड़की (सिरि १४०) ।  
 पंगतणय पुं [नन्दतणय] श्रीकृष्ण (प्राष्ठ २७) ।  
 पंगमाणग पुं [नन्दमानक] पक्षी की एक जाति (पएह १, १) ।  
 पंगदावत्त पुंन [नन्दावत्त] १ एक देव-पंगदावत्त } विमान (देवेन्द्र १३३) । २ पुं. चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (उत्त ३६, १४८) । ३ न. लगातार एक-दोस दिनों का उपवास (संवाध ५८) ।  
 पंगदा ली [नन्दा] १ भगवान् ऋषभदेव की एक पत्नी (पउम ३, ११६) । २ राजा श्रेष्ठिक की एक पत्नी और अभयकुमार की माता (णाय १, १) । ३ भगवान् श्री शीतलनाथ की माता (सम १५१) । ४ भगवान् महावीर के अचलभ्रातृ नामक गणधर की माता (आवम) । ५ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, १०) । ६ पश्चिम त्वक्-पर्वत पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८) । ७ ईशानेन्द्र की एक अप्रमहिषी की राजधानी (ठा ४, २) । ८ स्वनाम-ख्यात एक पुष्करिणी (ठा ४, ३) । ९ ज्योतिष-शास्त्र में प्रसिद्ध तिथि-विशेष—प्रतिपदा, पक्षी और एकादशी तिथि (चंद १०) ।  
 पंगदा ली [दे] गो, गैया (दे ४, १८) ।  
 पंगदावत्त पुं [नन्दावत्त] १ एक प्रकार का स्वस्तिक (सुपा ५२) । २ क्षुद्र जन्तु की एक जाति (जीव १) । ३ न. देव-विमान-विशेष (सम २६) ।  
 पंगि पुंली [नन्दि] १ बारह प्रकार के वाद्यों का एक ही साथ आवाज (पएह २, ५, एंदि) । २ प्रमोद, हर्ष (ठा ५, २) । ३ मतिज्ञान आदि पंचों ज्ञान (एंदि) । ४ वाञ्छित अर्थ की प्राप्ति । ५ मंगल (वृह १, अजि ३८) । ६ समृद्धि (अणु) । ७ जैन

आगम ग्रंथ-विशेष (गंदि) । ८ वाञ्छा, अभिलाष, चाह (सम ७१) । ९ गान्धार ग्राम की एक मूर्धना (ठा ७) । १० पुं. स्वनाम द्यात एक राजकुमार (विपा १, १) । ११ एक जैन मुनि, जो अपने आगामी भव में द्वितीय बलदेव होगा (पउम २०, १६०) । १२ वृक्ष-विशेष (पउम २०, ४२) । १ आवत्त देखो ०यावत्त (इक) । १ उड्ड पुं [०वृद्ध] एक प्राचीन कवि का नाम (कप्प) । १ कर, ०गर वि [०कर] मंगल-कारक (कप्प; राया १, १) । १ गाम पुं [०ग्राम] ग्राम-विशेष (उप ६१७; आचू १) । १ घोस पुं [०घोष] १ वारह प्रकार के बाघों की आवाज (गंदि) । २ न. देवविमान-विशेष (सम १७) । १ चुण्णग न [०चूर्णक] होठ पर लगाने का एक प्रकार का चूर्ण (सूत्र १, ४, २) । १ तूर न [०तूर्य] एक साथ बजाया जाता वारह तरह का वाद्य (वृह १) । १ पुर न [०पुर] साहिडल्य देश का एक नगर (उप १०३१ टी) । १ फल पुं [०फल] वृक्ष-विशेष (राया १, ८; १५) । १ भाण न [०भाजन] उपकरण-विशेष (वृह १) । १ मित्त पुं [०मित्र] १ देखो णंद-मित्त (राज) । २ एक राजकुमार, जिसने भगवान् मल्लिनाथ के साथ दोहा जी धी (राया १, ८) । १ मुडंग पुं [०मुदङ्ग] एक प्रकार का मृदंग, वाद्य-विशेष (राय) । १ मुह न [०मुख] पक्षि-विशेष (राज) । १ घर देखो ०कर (पउम ११८, ११७) । १ यावत्त पुं [०आवत्त] १ स्वस्तिक-विशेष (श्रीप; परह १, ४) । २ एक लोकपाल देव (ठा ४, १) । ३ खुद्र जन्तु-विशेष (पएण १) । ४ न. देव-विमान-विशेष (राज) । १ राय पुं [०राज] पाण्डवों के सम-कालीन एक राजा (राया १, १६—पत्र २०८) । १ राय पुं [०राग] समृद्धि में हर्ष (भग २, ५) । १ रुक्ख पुं [०वृक्ष] वृक्ष-विशेष (पएण १) । १ वड्डणा देखो ०वद्धणा (इक) । १ वद्धण पुं [०वर्धन] १ भगवान् महावीर का ज्येष्ठ भ्राता (कप्प) । २ पल-विशेष (कप्प) । ३ एक राजकुमार (विपा १, ६) । ४ न. नगर-विशेष (सुधा ६८) । १ वद्धणा स्त्री [०वर्धना] १ एक

दिकुमारी देवी (ठा ८) । २ एक पुष्करिणी (ठा ४, २) । १ सेण पुं [०पेण] १ ऐरवत वर्ष में उत्पन्न चतुर्थ जिन-देव (सम १५३) । २ एक जैन कवि (अजि ३८) । ३ एक राज-कुमार (ठा १०) । ४ स्वनाम-द्व्यात एक जैन मुनि (उव) । ५ देव-विशेष (राज) । १ सेणा स्त्री [०पेणा] १ पुष्करिणी-विशेष (जीव ३) । २ एक दिकुमारी देवी (श्रीव) । १ सेणिया स्त्री [०पेणिका] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अंत) । १ स्सर पुं [०स्वर] १ देखो णंदीसर (राज) । २ वारह प्रकार के बाघों का एक ही साथ आवाज (जीव ३) । १ गंदिअ न [०दे] सिंह की चिल्लाहट, दहाड़ (दे ४, १६) । १ गंदिअ वि [०नन्दित] १ समृद्ध (श्रीप) २ जैनमुनि-विशेष (कप्प) । १ गंदिअख पुं [०दे] सिंह, मुनेद्र (दे ४, १६) । १ गंदिघोस पुं [०नदिघोष] वाद्य-विशेष (राय ४६) । १ गंदिज्ज न [०नन्दीय] जैन मुनियों का एक कुल (कप्प) । १ गंदिणी स्त्री [०नन्दिनी] पुत्री, लड़की (पउम ४६, २) । १ पिउ पुं [०पितृ] भगवान् महावीर का एक स्वनाम-द्व्यात गृहस्थ उपासक (उवा) । १ गंदिणी स्त्री [०दे] गऊ, नैया, गाय (दे ४, १८; पात्र) । १ गंदिण पुं [०नन्दिण] आर्यमंगु के शिष्य एक जैनमुनि (गंदि ५०) । १ गंदिस्सर पुं [०नन्दीश्वर] १ एक द्वीप । २ गंदीसर } एक समुद्र (सुज १६) । ३ एक देव-विमान (देवेन्द्र १४४) । १ गंदी देखो णंदि (महाऽश्रय ३२१ ना; परह १, १; श्रीप; सम १५२; गंदि) । १ गंदी स्त्री [०दे] गऊ, गाय, नैया (दे ४, १८; पात्र) । १ गंदीसर पुं [०नन्दीश्वर] स्वनाम प्रसिद्ध एक द्वीप (राया १, ८; महा) । १ वर पुं [०वर] नन्दीश्वर-द्वीप (ठा ४, ३) । १ वरोद पुं [०वरोद] समुद्र-विशेष (जीव ३) । १ गंदुत्तर पुं [०नन्दोत्तर] देव-विशेष, नाग-कुमार के भूतानन्द-नामक इन्द्र के रथ-सैन्य का अधिपति देव (ठा ५, १; इक) । १ वडि-

सग न [०वितंसक] एक देव-विमान (सम २६) । १ गंदुत्तरा स्त्री [०नन्दोत्तरा] १ पश्चिम स्वक पर्वत पर रहनेवाली एक दिकुमारी देवी (ठा ८; इक) । २ कृष्णानामक इन्द्राणी की एक राजधानी (जीव ३) । ३ पुष्करिणी-विशेष (ठा ४, २) । ४ राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अंत ७) । १ गकार पुं [०गकार, नकार] 'ण' या 'न' अक्षर (विसे २८६७) । १ गङ्ग पुं [०नङ्ग] १ जलजन्तु-विशेष, ग्राह, नाका (परह १, १; कुमा) । २ रावण का एक स्वनाम द्यात सुभट (पउम ५६, २८) । १ गङ्ग पुं [०दे] १ नाक, नासिका (दे ४, ४६; विपा १, १; श्रीप) । २ वि. मूक, वाचा-वाचा-शक्ति से रहित, शूंगा (दे ४, ४६) । १ गंसरा स्त्री [०सिरा] नाक का छिद्र (पात्र) । १ गङ्गचर पुं [०नङ्गचर] १ राक्षस । २ चोर । ३ विडाल । ४ वि. रात्रि में चलने-फिरने-वाला (हे १, १७७) । १ गङ्गख पुं [०नख] नख, नाखून (हे २, ६६; प्राप्र) । १ अ वि [०ज] नख से उत्पन्न (गा ६७१) । १ आउह पुं [०आयुध] सिंह, मुगारि (कुमा) । १ गङ्गखत्त पुंन [०नक्षत्र] कृत्तिका, अश्लिषी, भरणी आदि ज्योतिष्क-विशेष (पात्र; कप्प; इक; सुज १०) । १ दमण पुं [०दमन] राक्षस-वंश का एक राजा, एक लंकेश (पउम ५, २६६) । १ मास पुं [०मास] ज्योतिष-शास्त्र में प्रसिद्ध समय-मान-विशेष (वव १) । १ मुह न [०मुख] चन्द्र, चांद (राज) । १ संवच्छर पुं [०संवत्सर] ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध वर्ष-विशेष (ठा ६) । १ गङ्गखत्त वि [०नक्षत्र] १ क्षत्रिय-जाति के अयोग्य कार्य करनेवाला (वर्मवि ३) । २ पुंन. एक देव-विमान (देवेन्द्र १४३) । १ गङ्गखत्त वि [०नाक्षत्र] नक्षत्र-सम्बन्धी, नक्षत्र का (ज ७) । १ गङ्गखत्तणेमि पुं [०दे. नक्षत्रनेमि] विष्णु, नारायण (दे ४, २२) । १ गङ्गखत्तण न [०दे] नख और कण्टक निकालने का शस्त्र-विशेष (वृह १) ।

णक्खि वि [नखिन्] सुन्दर नखवाला (बृह १) ।  
 णख देखो णक्ख (कुप्र ५८) ।  
 णग देखो णय = नग (परह १, ४; उप ३५६ टी; सुर ३, ३४) । °णय पुं [°राज] मेह पर्वत (ठा ६) । [°वर] पुं [°वर] श्रेष्ठ पर्वत (साया १, १) । °वरिद पुं [°वरेन्द्र] मेह-पर्वत (पउम ३, ७६) ।  
 णगर न [नकर, नगर] शहर, पुर (बृह १; कप्प; सुर ३, २०) °गुत्तिय, °गोत्तिय पुं [°गुत्तिक] नगर रखक, कोटपाल, कोतवाल, दरोगा (साया १, १८; औप; परह १, २; साया १, २) । °घाय पुं [°घात] शहर में लूट-पाट (साया १, १८) । °गिद्धमग न [°निर्धमन्] नगर का पानी जाने का रास्ता, मोरी, खाल (साया १, २) । °रक्खिय पुं [°रक्षिक] देखो °गुत्तिय (निचू ४) । °वास पुं [°वास] राजधानी, पाटनगर (जं १—पत्र ७४) ।  
 णगरी देखो णयरी (राज) ।  
 णगाणिआ स्त्री [नगाणिका] छन्द-विशेष (पिग) ।  
 णगिद पुं [नगेन्द्र] १ श्रेष्ठ पर्वत (पउम ६७, २७) । २ मेह पर्वत (सुप्र १, ६) ।  
 णगिण वि [नग्न] नंगा, वस्त्र-रहित (आचा; उप पृ ३६३) ।  
 णग्ग देखो णग (तंडु ४५) ।  
 णग्ग वि [नग्न] नंगा, वस्त्र-रहित (प्राप्र; दे ४, २८) । °इ पुं [°जित्] गन्धार देश का एक स्वनाम-ख्यात राजा (औप; महा) ।  
 णग्गठ वि [दे] निर्गत, बाहर निकला हुआ (पड—पुष्ट १८१) ।  
 णग्गोह पुं [°न्यग्रोध] वृक्ष-विशेष, वड़ का पेड़ (पात्र; सुर १, २०५) । °परिमंडल न [°परिमण्डल] संस्थान-विशेष, शरीर का आकार-विशेष (ठा ६) ।  
 णघुस पुं [नघुष] स्वनाम-ख्यात एक राजा (पउम २२, ५५) ।  
 णचिरा देखो अइरा = अचिरात् (पि ३६९) ।  
 णच्च अक [नृत्] नाचना, नृत्य करना । एच्चइ (पड) वक्र; णच्चंत, णच्चमाण (सुर

२, ७५; ३, ७७) । हेकू. णच्चिउं (गा ३६१) कू. णच्चियव्व (पउम ८०, ३२) । प्रयो. कक्क. णच्चविज्जंत (स ३६) ।  
 णच्च न [ज्ञत्व] जानकारी, परिडताई (कुमा) ।  
 णच्च न [नृत्य] नाच, नृत्य (दे ५, ८) ।  
 णच्चग वि [नर्तक] १ नाचनेवाला । पुं. नट, नचवेया (वक्र ६) ।  
 णच्चण न [नर्तन] नाच, नृत्य (कप्प) ।  
 णच्चणां स्त्री [नर्तनी] नाचनेवाली स्त्री (कुमा; कप्प; सुपा १६६) ।  
 णच्चा } देखो णा = ज्ञा ।  
 णच्चाण }  
 णच्चाविअ वि [नर्त्तित] नचाया हुआ (औप ३६५; ठा ६) ।  
 णच्चासन्न न [नात्यासन्न] अति समीप में नहीं (साया १, १) ।  
 णच्चिर वि [नर्त्तितृ] नचवेया, नाचनेवाला, नर्तन-शील (गा ४२०; सुपा ५४; कुमा) ।  
 णच्चिर वि [दे] रमण-शील (दे ४, १८) ।  
 णच्चुण्ह वि [नात्युष्ण] जो अति गरम न हो (ठा ५, ३) ।  
 णज्ज सक [ज्ञा] जानना । एज्जइ (प्राप्र) ।  
 णज्ज वि [न्याय्य] न्याय-संगत (प्राकृ. १६) ।  
 णज्जंत } देखो णा = ज्ञा ।  
 णज्जमाण }  
 णज्जर वि [दे] मलिन, मैला (दे ४, १६) ।  
 णज्जर वि [दे] विमल, निर्मल (दे ४, १६) ।  
 णट्ट अक [नट] १ नाचना । २ सक. हिसा करना । एट्टइ (हे ४, २३०) ।  
 णट्ट पुं [नट] नर्तकों की एक जाति; 'एच्चंति एट्टा पभणंति विप्पा' (रंभा; सण; कप्प) ।  
 णट्ट न [नाट्य] नृत्य, गीत और वाद्य, नट-कर्म (साया १, ३; सम ८३) । °पाल पुं [°पाल] नाट्य-स्वामी, सूत्रधार (आचू १) । °मालय पुं [°मालक] देव-विशेष, खण्डप्रपात गुहा का अधिप्रायक देव (ठा २, ३) । °अरिअं पुं [°चार्य] सूत्रधार (मा ४) ।  
 णट्ट [नृत्य] नाच, नृत्य (से १, ८; कप्प) ।  
 णट्टअ न [नाट्यक] देखो. णट्ट = नाट्य (मा ४) ।

णट्टअ } वि [नर्त्तक] नाचनेवाला, नचवेया  
 णट्टग } (प्राप्र; साया १, १; औप) । स्त्री.  
 °ई (प्राप्र; हे २, ३०; कुमा) ।  
 णट्टार पुं [नाट्यकार] नाट्य करनेवाला (सण) ।  
 णट्टायअ वि [नर्त्तक] नचावेवाला (कप्प) ।  
 णट्टिया स्त्री [नर्त्तिका] नटी, नर्त्तकी, नाचने-वाली स्त्री (महा) ।  
 णट्टुमत्त पुं [नर्त्तुमत्त] स्वनाम-ख्यात एक विद्याधर (महा) ।  
 णट्ट पुं [नट] एक नरक स्थान (देवेन्द्र २८) । २ न. पलायन (कुप्र ३७) ।  
 णट्ट वि [नट] १ नट, अपगत, नाश-प्राप्त (सुप्र १, ३, ३; प्रासू ८६) । २ पुंन. अहो-रात्र का सतरहवाँ मूहूर्त्त (राज) । सुइअ वि [°श्रुतिक] १ जो वधिर—बहरा हुआ हो (साया १, १—पत्र ६३) । २ शास्त्र के वास्तविक ज्ञान से रहित (राज) ।  
 णट्टव वि [नटवत्] १ नाश-प्राप्त । २ न. अहोरात्र का एक मूहूर्त्त (राज) ।  
 णड अक [गुप्] १ व्याकुल होना । २ सक. खिन्न करना । एडइ, एडंति (हे ४, १५०; कुमा) । कर्म. एडिज्जइ (गा ७७) । कक्क. णडिज्जंत (सुपा ३३८) ।  
 णड देखो णट्ट = नट । एडइ (प्राकृ ६६) ।  
 णड देखो णल = नड (हे २, १०२) ।  
 णड पुं [नट] १ नर्तकों की एक जाति, नट (हे १, १६५; प्राप्र) । °खाइया स्त्री [°खादिता] दीक्षा-विशेष, नट की तरह कृत्रिम साधुपन (ठा ४, ४) ।  
 णडाल न [ललाट] भाल, कपाल (हे १, ४७; २५७; गउड) ।  
 णडालिआ स्त्री [ललाटिका] ललाट-शोभा, कपाल में चन्दन आदि का विलेपन (कुमा) ।  
 णडालिअ वि [गोपित] १ व्याकुल किया हुआ । खिन्न किया हुआ (सुपा ३२५) ।  
 णडिअ वि [गुपिन] व्याकुल (से १०, ७०; सण) ।  
 णडिअ वि [दे] १ वञ्चित, विप्रतारित (दे ४, १६) । २ वेदित, खिन्न किया हुआ (दे ४, १६; पात्र; साया १, ६) ।

णडी लो [नटी] १ नट की ली (गा ६; ठा ६) । २ लिपि विशेष (विसे ४६४ टी) । ३ नाचनेवाली ली (बृह ३) ।

णडुली ली [दे] कच्छन, कडुआ (दे ४, २०) ।  
णडूल न [नडुल] १ नगर विशेष (मोह ८८) । २ पुं. देश-विशेष (ती १५) ।

णडुरी ली [दे] भेक, मेडक, घेंग (दे ४, २०) ।  
णडुल न [दे] १ रत्न, मैथुन । २ दुक्ति, मेवाच्छन्न दिवस (दे ४, ४७) ।

णडुली देखो णडुली (दे ४, २०) ।  
णणंदा ली [ननान्ट] पति की बहिन, ननद (पड; हे ३, ३५) ।

णणु अ [ननु] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ अवधारण, निश्चय (प्रासू १६१; निचू १) ।  
२ आशंका । ३ वितर्क । ४ प्रश्न (उव; सण; प्रति ५५) ।

णणु पुं [दे] १ कूप, कुआँ । २ दुर्जन, खल । ३ बढ़ा भाई (दे ४, ४६) ।

णत्त न [नक्त] रात्रि, रात (चंद १०) ।

णत्त देखो णत्तु; 'अंकनिवेशिनियनियनियपुत्त-पडिपुत्तनत्तपुत्तीय' (सुपा ६) ।

णत्तंचर देखो णक्कंचर (कुमा; पि १७०) ।

णत्तण न [नर्तन] नाच, नृत्य (नाट—शकु ८०) ।

णत्ति ली [ज्ञप्ति] ज्ञान (धर्मसं ८२८, एंदि ६७ टी) ।

णत्तिअ पुं [नप्टक] १ पौत्र, पुत्र का पुत्र पोता । २ दौहित्र, पुत्री का पुत्र, नाती (हे १, १३७; कुमा) ।

णत्तिआ } ली [नप्ट्री] १ पुत्र की पुत्री,  
णत्ती } पौत्री (कुमा) । २ पुत्री की पुत्री, नातिन, नतिनी (राज) ।

णत्तु } पुं [नप्ट, क] देखो णत्तिअ  
णत्तुअ } (निर २, १; हे १, १३७; सुपा १६२; विपा १, ३) ।

णत्तुआ देखो णत्तिआ (बृह १; विपा १, ३) ।

णत्तुङ्गी ली [नप्टकिनी] १ पौत्र की ली ।  
२ दौहित्र की ली (विपा १, ३) ।

णत्तुई देखो णत्ती (विपा १, ३; कप्प) ।

णत्तुणिअ पुं [नप्ट] १ पौत्र, पोता । २ प्रपौत्र, परपोता (दस ७, १८) ।

णत्तुणिआ देखो णत्तिआ (दस ७, १५) ।

णत्थ वि [न्यस्त] स्थापित, निहित (गाया १, १, ३; विसे ६१६) ।

णत्थण न [दे] नाक में छिद्र करना (सुर १४, ४१) ।

णत्था ली [दे] नासा-रज्जु, नाथा या नाथ (दे ४, १७, उवा) ।

णत्थि अ [नास्ति] अभाव-सूचक अव्यय (कप्प; उवा; सम्म ३६) ।

णत्थिअ वि [नास्तिक] १ परलोक आदि नहीं माननेवाला (प्राह) । २ पुं. नास्तिक-मत का प्रवर्तक, चार्वाक । ३ वाय पुं. [वाद्] नास्तिक-दर्शन (उप १३२ टी) ।

णत्थियवाइ वि [नास्तिकवादिन्] आत्मा आदि के अस्तित्व को नहीं माननेवाला (धर्मवि ४) ।

णद् सक [नट्] नाद करना, आवाज करना ।  
वक्क. णदंत (सम ५०; नाट—मृच्छ १५५) ।

णद् पुं [नट्] नाद, आवाज, शब्द; 'गद्देव्व गवां मज्जे विस्सरं नवई नद' (सम ५०) ।

णद्दी देखो णई (से ६, ६५; पण ११) ।

णद्दिअ वि [दे] दुःखित (दे ४, २०) ।

णद्दिअ न [नर्दित] घोष, आवाज, शब्द (राज) ।

णद्ध वि [नद्ध] १ परिहित, आच्छादित (गा ५२०; पउम ७, ६२; सुपा ३५५) । २ नियन्त्रित, बँधा हुआ (सुपा ३५५) ।

णद्ध वि [नद्ध] कवचित, बमित (धर्मवि ४) ।

णद्ध वि [दे] आरुढ़ (दे ४, १८) ।

णद्धववय न [दे] १ अष्टणा, शृणा या धिन का अभाव । २ निन्दा (दे ४, ४७) ।

णपहुत्त वि [अप्रभूत] अपर्मास, अपरिपूर्णा, यथेतरहित (गउड) ।

णपहुत्तं वि [अप्रभवत्] अपर्मास होता (गउड) ।

णपुंस } पुं [नपुंसक] नपुंसक, क्लीव,  
णपुंसग } नामदं, पंड (शोच २१; आ १६;  
णपुंसय } ठा ३, १; सम ३७; महा) । ३ वेय पुं [वेद] कर्म-विशेष, जिसके उदय से ली और पुत्य दोनों के स्पर्श की वाढ्या होती है (ठा ६) ।

णप्प सक [ज्ञा] जानना । णप्पइ (प्राप) ।

णभ देखो णह = नमस् (हे १, १८७; कुमा; वसु) ।

णभसूरय पुं [नभःशूरक] कृष्ण पुत्रल-विशेष, राहु (सुज २०) ।

णम सक [नम] नमन करना, प्रणाम करना ।  
णमामि (भग) । वक्क. णमंत, णममाण (पि ३६७; आचा) । कवक्क. णमिजंत (से ६, ३५) । संक. णमिऊण, णमिऊणं, णमेऊण (जी १; पि ५८५; महा) । क. णमणिज्ज, णमियव्व (रयण ४३; उप २११ टी; पउम ६६, २१) । संक. णमिअ (कम्म ४, १) ।

णमंस सक [नमस्य] नमन करना, नमस्कार करना । णमंसइ (भग) । वक्क. णमंसमाण (गाया १, १; भग) । संक. णमंसित्ता (ठा ३, १; भग) । हेक्क. णमंसित्तए (उवा) । क. णमंसणिज्ज, णमंसियव्व (श्रीप; सुपा ६३८; पउम ३५, ४६) ।

णमंसण न [नमस्यन] नमन, नमस्कार (अजि ५, भग) ।

णमंसणया } ली [नमस्यना] प्रणाम,  
णमंसणा } नमस्कार (भग; सुपा ६०) ।

णमंसिय वि [नमस्यित्त] जिसको नमन किया गया हो वह (पण २, ४) ।

णमंकार देखो णमोकार (गउड; पि ३०६) ।

णमण न [नमन] प्रणति, प्रणाम, नमना (दे ७, १६; रयण ४६) ।

णमसिअ न [दे] उपवाचितक, मनौती (दे ४, २२) ।

णमि पुं [नमि] १ स्वनाम-ख्यात एकीसवाँ जिन-देव (सम ४३) । २ स्वनाम-प्रसिद्ध राजपि (उत्त ३६) । भगवान् ऋषभदेव का एक पौत्र (वण १४) ।

णमिअ वि [नत] प्रणत, जिसने नमन किया हो वह; 'पडिवक्खारायाणो तत्त राइणो नमिया' (महा) ।

णमिअ वि [नमित] नमाया हुआ (गा ६६०) ।

णमिअ देखो णम ।

णमिआ ली [नमिता] १ स्वनाम-ख्यात एक ली । २ 'जाताधर्मकयासूत्र' का एक अध्ययन (शाया २) ।

णमिर वि [नम्र] नमन करनेवाला (कुमा; सुपा २७; सण) ।

णमुइ पुं [नमुचि] स्वनाम-ख्यात एक मन्त्री (महा) ।

णमुदय पुं [नमुदय] आजीविक मत का एक उपासक (भग ७, १०) ।

णमेरु पुं [नमेरु] वृक्ष-विशेष (सुर ७, १६; स ६३३) ।

णमो अ [नमस्] नमस्कार, नमन (भग; कुमा) ।

णमोक्षार पुं [नमस्कार] १ नमन, प्रणाम (हे १, ६२; २, ४) । २ जैन-शास्त्र में प्रसिद्ध एक सूत्र—मन्त्र-विशेष (विसे २८०५) । 'सहिय न [सहित] प्रत्याख्यान-विशेष, व्रत-विशेष (पडि) ।

णमोधार देखो णमोक्षार (वंड) ।

णम्म पुं न [नर्मन्] १ हांसी, उपहास । २ झोड़ा, केलि (हे १, ३२; आ १४; दे २, ६४; पात्र) ।

णम्मया ली [नर्मदा] १ स्वनाम प्रसिद्ध नदी (सुपा ३८०) । २ स्वनाम-ख्यात एक राज-पत्नी (स ५) ।

णय देखो णद् = नद; 'विस्सरं नयई नदं' (सम ५०) ।

णय पुं [नग] १ पहाड़, पर्वत (उप पृ २५६; सुपा ३४८) । २ वृक्ष, पेड़ (हे १, १७७) । देखो णग ।

णय अ [नच] नहीं (उप ७६८ टी) ।

णय [नत] १ नमा हुआ, झुका हुआ; प्रणत, नम्र (शाया १, १) । २ जिसको नमस्कार किया गया हो वह; 'नीसेसत्रियडपडिवक्खनयकमो विकमो राया' (सुपा ५६६) । ३ न. देवविमान-विशेष (सम ३७) । 'सञ्ज पुं [सत्य] श्रीकृष्ण, नारायण (अच्छु ७) ।

णय पुं [नय] १ न्याय, नीति (विसे ३३६५; सुपा ३४८; स ५०१) । २ युक्ति (उप ७६८) । ३ प्रकार, रीति; 'जलणा वि वेप्पई पवणा भुयगो य केणइ नएण' (स ४५४) । ४ वस्तु

के अनेक धर्मों में किसी एक को मुख्य रूप से स्वीकार कर अन्य धर्मों की उपेक्षा करनेवाला मत, एकांश-ग्राहक बोध (सम्म २१; विसे ३१४; ठा ३, ३) । ५ विधि (विसे ३३६५) । 'चंद पुं [चन्द्र] स्वनाम-ख्यात एक जैन ग्रन्थकार (रंभा) । 'दिय वि [दिग्धिन्] न्याय चाहनेवाला (आ १४) । 'व, 'वत वि [वत्] नीतिवाला, न्याय-परायण (सम ५०; सुपा ५४२) । 'विजय पुं [विजय] विक्रम की सतरहवीं शताब्दी के एक जैन मुनि, जो सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री यशोविजयजी के गुरु थे (उवर २०२) ।

णयचक्र न [नयचक्र] एक प्राचीन जैन प्रमाण-ग्रन्थ (सम्मत् ११७) ।

णयणं न [नयन] १ ले जाना, प्रापण (उप १३४) । २ जानना, ज्ञान । ३ निश्चय (विसे ६१४) । ४ वि. ले जानेवाला; 'वयणाई सुपहनवणाई' (सुपा ३७७) । ५ पुंन. आंख, नेत्र, लोचन (हे १, ३३; पात्र) । 'जल न [जल] अयु, आंसू (पात्र) ।

णयय पुं [दे. नयत] ऊत का वना हुआ आस्तरण-विशेष (शाया १, १—पत्र १३) ।

णयर देखो णगर (हे १, १७७; सुर ३, २० औप; भग) ।

णयरंगणा ली [नगराङ्गना] वेश्या, गरििका (आ २७) ।

णयरी ली [नगरी] शहर, पुरी (उपा; पउम ३६, १००) ।

णर पुं [नर] १ मनुष्य, मानुष, पुरुष (हे १, २२६; सूत्र १, १, ३) । २ अर्जुन, मध्यम पाण्डव (कुमा) । 'उसभ पुं [वृषभ] श्रेष्ठ मनुष्य, अंगीकृत कार्य का निर्वाहक पुरुष (औप) । 'कंतपवाय पुं [कान्तप्रपात] हृद-विशेष (ठा २, ३) । 'कंता ली [कान्ता] नदी-विशेष (ठा २, ३; सम २७) । 'कंता-कूड न [कान्ताकूट] रुक्मि पर्वत का एक शिखर (ठा ८) । 'दत्ता ली [दत्ता] १ मुनि-वृत्रत भगवान् की शासनदेवी (राज) २ विद्यादेवी-विशेष (सति ५) । 'देव पुं [देव] चक्रवर्ती राजा (ठा ५, १) 'नायग पुं [नायक] राजा, नरपति (उप २११ टी) । 'नाह पुं

[नाथ] राजा, भूपाल (सुपा ६; सुर १, ६१) । 'पहु पुं [प्रभु] राजा, नरेश (उप ७२८ टी; सुर २, ८४) । 'पौरुसि पुं [पौरुसिन्] राज-विशेष (उप ७२८ टी) । 'लोअ पुं [लोक] मनुष्य लोक (जी २२; सुपा ४१३) । 'वइ पुं [पति] नरेश, राजा (सुर १, १०४) । 'वर पुं [वर] १ राजा, नरेश (सुर १, १३१; १५, १४) । २ उत्तम पुरुष (उप ७२८ टी) । 'वरिद पुं [वरेन्द्र] राजा, भूमि-पति (सुपा ५६; सुर २, १७६) । 'वरोसर पुं [वरेश्वर] श्रेष्ठ राजा (उत्त १८) । 'वसभ, 'वसह पुं [वृषभ] १ देखो 'उसभ (पएह १, ४; सम १५३) । २ राजा, वृषति (पउम ३, १४) । ३ पुं. हरिवंश का एक स्वनाम-प्रसिद्ध राजा (पउम २२, ६७) । 'वाल पुं [पाल] राजा, भूपाल (सुपा २७३) । 'वाहण पुं [वाहन] स्वनाम-ख्यात एक राजा (आक १; सण) । 'वेय पुं [वेद] पुरुष वेद, पुरुष को ली के स्वर्श की अभिलाषा (कम्म ४) । 'सिंघ, 'सिंह, 'सीह पुं [सिंह] १ उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ मनुष्य (सम १५३; पउम १००, १६) । २ अर्ध भाग में पुरुष का और अर्ध भाग में सिंह का आकारवाला, श्रीकृष्ण, नारायण (शाया १, १६) 'सुंदर पुं [सुन्दर] स्वनाम-ख्यात एक राजा (धम्म) । 'धिप पुं [धिप] राजा, नरेश (गा ३६४; सुपा २५) ।

णरइंदय पुं [नरकेन्द्रक] नरक-स्वान-विशेष (देवेन्द्र १) ।

णरकंठ पुं [नरकण्ठ] रत्न की एक जाति (राय ६७) ।

णरसिंह पुं [नरसिंह] १ बलदेव, 'ततो लोयम्मि बलदेवो नरसिंहो ति पसिद्धो' (कुप्र १०३) । २ एक राजकुमार (कुप्र १०६) ।

णरग } पुं [नरक] नरक जीवों का स्थान  
णरय } (विपा १, १; पउम १४, १६; आ ३; प्रासू २६; उव) । 'वाल, 'वाल्य पुं [पाल, 'क] परमाधार्मिक देव, जो नरक के जीवों को यातना (पीड़ा) देते हैं (पउम २६, ५१; ८, २३७) ।



गाराच } पुंन [नाराच] १ लोहमय बाण ।  
गाराच } २ संहनन-विशेष, शरीर की रचना  
का एक प्रकार (हे १, ६७) । ३ छन्द-विशेष  
(पिंग) ।

गारायण पुं [नारायण] श्रीकृष्ण, विष्णु  
(पिंग) ।

गारिंद पुं [नरेन्द्र] १ राजा, नरेश (सम  
१५३; प्रासू १०७; कल्प) । २ गाइडिक,  
सर्प के विष को उतारनेवाला (स २१६) ।  
°कंत न [°कान्त] देव-विमान-विशेष (सम  
२२) °पह पुं [°पथ] राज-मार्ग, महापथ  
(पउम ७६, ८) । °वसह पुं [°वृषभ] श्रेष्ठ  
राजा (उत्त ६) ।

गारिंदुत्तरवडिसग न [नरेन्द्रोत्तरावतंसक]  
देव-विमान-विशेष (सम २२) ।

गारीस पुं [नरेश] राजा, नरपति; 'सो भर-  
हृदनरीसो होही पुरिसो न संदेहो' (सुर १२,  
८०) ।

गारीसर पुं [नरेश्वर] राजा, नरपति (ग्रजि  
११) ।

गारुत्तम पुं [नरोत्तम] श्रीकृष्ण (सिरि  
४२) ।

गारुत्तम पुं [नरोत्तम] उत्तम पुरुष (पउम  
४८, ७५) ।

गारिंद देखो गारिंद (पि १५६; पिंग) ।

गारेसर देखो गारीसर (जव ७२८ टी; सुपा  
५५; ५६१) ।

गाल न [नड] वृण-विशेष, भीतर से पोला  
शराकार वृण (हे २, २०२; ठा ८) ।

गाल न [नल] १ ऊपर देखो (पएण १; जव  
१०३१ टी; प्रासू ३३) । २ पुं. राजा राम-  
चन्द्र का एक सुभट (सि ८, १८) । ३ वैद्यमण  
का एक स्वनाम-ध्यात पुत्र (अंत ५) ।  
°कुवर, °कूवर पुं [°कूवर] १ दुर्लभपुर  
का एक स्वनाम-ध्यात राजा (पउम १२,  
७२) । २ वैद्यमण का एक पुत्र (आवम) ।  
°गिरि पुं [°गिरि] चण्डप्रद्योत राजा का  
एक स्वनाम-ध्यात हाथी (महा) ।

गालय न [दे] उशीर, खस का वृण (दे ४,  
१६; पाश्र) ।

गालाड देखो गडाल (हे २, १२३; कुमा) ।

गलाडंतय वि [ललाटन्तप] ललाट को  
तपानेवाला (कुमा) ।

गलिअ न [दे] गृह, घर, मकान (दे ४,  
२०; पड्) ।

गलिण न [नलिन] १ लगातार तेईस दिन का  
उपवास (संवाय ५८) । २ पुंन. एक देव-  
विमान (देवेन्द्र १३२) ।

गलिण न [नलिन] १ रक्त कमल (राय;  
चंद १०; पाश्र) । २ महाविदेह वर्ष का एक  
विजय, प्रदेश-विशेष (ठा २, ३) । ३  
'नलिनांग' को चौरासी लाख से गुणने पर जो  
संख्या लख हो वह (ठा २, ४; इक) । ४  
देव-विमान विशेष (सम ३३; ३५) । ५

ल्वक पर्वत का एक शिखर (दीव) । °कूड  
पुं [°कूट] वनस्कार-नर्घत-विशेष (ठा २,  
३) । °गुम्म न [°गुल्म] १ देव-विमान-  
विशेष (सम ३५) । २ वृण-विशेष (ठा ८) ।

३ अय्ययन-विशेष (आव ४) । ४ राजा  
श्रेणिक का एक पुत्र (राज) । °वई ती  
[°वती] विदेह वर्ष का एक विजय, प्रदेश  
विशेष (ठा २, ३) ।

गलिणंग न [नलिनाङ्ग] संख्या-विशेष, पय  
को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या  
लख हो वह (ठा २, ४; इक) ।

गलिणि° } त्री [नलिनी] कमलिनी, पद्मिनी  
गलिणी } (पाश्र; शाया १, १) । °गुम्म  
देखो गलिण-गुम्म (निर २, १; विसे) ।

°वण न [°वन] उद्यान-विशेष (शाया २) ।

गलिणोदग पुं [नलिनोदक] समुद्र-विशेष  
(दीव) ।

गल्लय न [दे] १ वृत्ति विवर, बाड़ का छिद्र ।  
२ प्रयोजन । ३ निमित्त, कारण । ४ वि.  
कर्ममित, कीचवाला (दे ४, ४६)

गय देखो गम । गवइ (पड्; हे ४, १५८;  
२२६) ।

गय वि [नय] नया, नूतन, नवीन (गउड;  
प्रासू ७१) । °वहुया, °वहू ली [°वधू]  
नवोद्गा, दुलहिन (हिका ५१; सुर ३, ५२) ।

गय वि. व. [नयन्] संख्या-विशेष, नव, ९  
(ठा ६) । °इ ली [°ति] संख्या-विशेष नव्वे,  
९० (सण) । °ग न [°क] नव का समुदाय  
(दे ३८) । °जोयणिय वि [°योजनिक]

नव योजन का परिमाणवाला (ठा ६) ।  
°गउड, °नउड ली [°नयति] संख्या-विशेष,  
नित्यानवे, ६६ (सम ६६, १००) । °नउय  
वि [°नयत्] ६६ वां (पउम ६६, ७५) ।  
°नयइ देखो °गउड (कम्म २, ३०) ।  
°नयमिया ली [°नयमिका] जैन साधु का  
व्रत-विशेष (सम ८८) । °म वि [°म]  
नयका (उवा) । °मी ली [°मी] तिथि-विशेष;  
पक्ष का नववां दिवस (सम २६) । °मीपक्ख  
पुं [°मीपक्ष] आठवां दिन, ऋतुमी (जं ३) ।  
गयकार देखो गमोकार (सट्टि १; चंय ३०;  
सण) ।

गयकारसी ली [नमरकारसहित] प्रत्या-  
ख्यान-विशेष, व्रत-विशेष (संवाय ५७) ।

गयख (ग्रय) वि [नय] अनोखा, नूतन, नया  
(हे ४, ४२२) । ली. °खी (हे ४, ४२०) ।

गयगीअ पुन [नयनीत] नयद्, न न्यान, नयका  
(कल्प; श्रौप; प्रासा); 'अणल्लहंश्रेणव नय-  
णीमो' (पउम ११८, २३) ।

गयगीइया ली [नयनीतिका] वनस्पति-  
विशेष (पएण १) ।

गयपय न [नयपद] नमस्कार-मन्त्र (सिरि  
५७६) ।

गयमालिया ली [नयमालिका] पुण्य-प्रदान  
वनस्पति-विशेष, वसंती नेवारी, नेवार (कल्प) ।

गयमिया ली [नयमिका] १ द्धक पर्वत पर  
रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८) ।  
२ सखुदय-नामक इन्द्र की एक अय-महिषी  
(ठा ४, १) । ३ शक्रेन्द्र की एक पटरानी  
(ठा ८) ।

गयय देखो गय-ग (पंचा १७, ३०) ।

गयय देखो गयय (शाया १, १७) ।

गययार देखो गयकार (पंचा १; पि ३०६) ।

गयय सक [कथ] कहना । कर्म. गययिअइ  
(प्राह. ७७) ।

गयय } अ. १ केवल, सिर्फ फक्त (हे २, १८७;  
गयय } कुमा; पड् उवा; सुपा ८; जी २७;  
गा १५) । २ अनन्तर, बाद में (हे २, १८८;  
प्राश्र) ।

गययंग } पुं [नययङ्ग, °क] १ नूतन रंग,  
गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

गययंगय } नया वण (सुर ३, ५२) । २  
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कौसुम्भ रंग का  
वल्ग (गउड; गा २४१; सुर ३, ५२; पाश्र) ।

णवरत्ति स्त्री [ नवरात्रि ] नव दिनों का अश्विन मास का एक पर्व (सङ्घि ७८) ।

णवरि अ [दे] शीघ्र, जल्दी, (प्राक् ८१) ।

णवरि } देखो णवर (हे २, १८८; से १, १७२) ।  
णवरिअ } ३६; प्रामा; सुर, २६; पङ्; ना

णवरिअ न [दे] सहसा, जल्दी, तुरन्त (दे ४, २२; पात्र) ।

णवरु देखो णवर (चंड) ।

णवलया स्त्री [दे] वह व्रत, जिसमें पति का नाम पूछने पर उत्ते नहीं बतावेवाली स्त्री पलाश की लता से ताड़ित की जाती है (हे ४, २१) ।

णवल्ह देखो णव = नव (हे २, १६५; कुमा; उप ७२८ टी) ।

णवसिअ न [दे] उपयाचितक, मनौती (दे ४, २२; पात्र; वजा ८६) ।

णवा स्त्री [नवा] १ नवोद्गा, दुलहिन । २ युवति स्त्री (सूत्र १, ३, २) । ३ जिसको बीजा लिए तीन वर्ष हुए हों ऐसी साध्वी (वव ४) । ४ अ. प्रश्नार्थक अव्यय, अथवा नहीं ? (रयण ६७) ।

णवि अ. १ वैपरीत्य-सूचक अव्यय, 'एवि हा वणे' (हे २, १७८; कुमा) । २ निपेवार्यक अव्यय (गउड) ।

णविअ देखो णमिअ = नत (हे ३, १५६; भवि) ।

णविअ वि [नव्य] नूतन, नया (आचा २, २, ३) ।

णवीण वि [नवीन] नूतन, नया (मोह ८३; धर्मवि १३२) ।

णवुत्तरसय वि [नवोत्तरशततम] एक सौ नववां (पउम १०६; २७) ।

णवुल्हय (अप) देखो णव = नव (कुमा) ।  
णवोडा स्त्री [नवोडा] नव-विवाहिता स्त्री, दुलहिन (काप्र १६७) ।

णवोद्धरण न [दे] उच्छिष्ट, जूठा (दे ४, २३) ।

णव्य पुं [दे] आयुक्त, गाँव का मुखिया (दे ४, १७) ।

णव्य वि [नव्य] नूतन, नया; नवीन (आ २७) ।

णव्य° देखो णा = ज्ञा ।

णव्याउत्त पुं [दे] १ ईश्वर, वनाढ्य, भोगी ।  
२ नियोगी का पुत्र; सुवेदार का लड़का (दे ४, २२) ।

णस सक [ति + अस] स्थापन करना । नसेज्ज (विसे ६४३) । कर्म. नस्सए (विसे ६७०) । संक. नसिऊण (स ६०८) ।

णस अक [नश] भागना, पलायन करना । एसइ (पिंग) ।

णसण न [न्यसन] न्यास, स्थापन (जीव १) ।  
णसा स्त्री [दे] नस, नाड़ी; असुईरसनिज्जरणे हड्डुक्करडमि चम्मनसतद्धे (सुपा ३५५) ।  
णसिअ वि [नट] नाश-प्राप्त (कुमा) ।

णस्स देखो नस = नश । एससइ, एससए, (पङ्, कुमा) । वक. नस्संत, नस्समाण (आ १६; सुपा २१५) ।

णस्सर वि [नश्चर] चिनश्चर, भंयुर, नाश पानेवाला; 'खणनस्सराई ह्वाइ' (सुपा २४३) ।

णस्सा स्त्री [नासा] नासिका; प्राणेंद्रिय (नाट-मुच्छ ६२) ।

णह् देखो णक्ख (सम ६०; कुमा) ।

णह न [नभस्] १ आकाश गगन (प्राप्र; हे १, ३२) । २ पुं. धावण मास (दे ३; १६) ।  
°अरवि [°चर] १ आकाश में विचरनेवाला (से १४; ३८) । २ पुं. विद्यावर, आकाश-विहारी मनुष्य (सुर ६, १८६) । °केउमंडिय न [°केतुमण्डित] विद्यावरों का एक नगर (इक) । °गमा स्त्री [°गमा] आकाश-गामिनी विद्या (सुर १३, १८६) । °गामिणी स्त्री [°गामिनी] आकाश-गामिनी विद्या (सुर ३, २८) । °चर देखो °अर (उप ५६७ टी) । °च्छेदणय न [°च्छेदनक] नख उतारने का शस्त्र (आचा २, १, ७, १) । °तिलय न [°तिलक] १ नगर-विशेष । २ सुभट-विशेष (पउम ५५, १७) । °वाहण पुं [°वाहन] नृप-विशेष (सुर ६, २६) । °सिर न [°शिरस्] नख का अग्र भाग (भग ५, ४) । °सिहा स्त्री [°शिखा] नख का अग्र भाग (कप्प) । °सेण पुं [°सेन] राजा उरसेन का एक पुत्र (राज) । °हरणी स्त्री [°हरणी] नख उतारने का शस्त्र (वह ३) ।

णहंसि वि [नखवत्] नखवाला (दस ६, ६५) ।

णहसुह पुं [दे] धुक, उल्लु (दे ४, २०) ।  
णहर पुं [नखर] नख, नाखून (सुपा ११; ६०६) ।

णहरण पुं [दे] नखी; नखवाला जंतु, धापद (वज्जा १२) ।

णहरणी स्त्री [नखहरणी] नहरनी, नख उतारने का शस्त्र (पंचव ३) ।

णहराल पुं [नखरिन्] नखवाला धापद जंतु (उप ५३० टी) ।

णहरी स्त्री [दे] सुरिका, छुरी (दे ४, २०) ।  
णहवल्ली स्त्री [दे] विद्युत्, विजली (दे ४, २२) ।

णहारु न [स्नायु] स्नायु, रग, नस, नाड़ी ।

णहि पुं [नखिन्] नख-प्रधान जंतु, स्वापद जंतु (अणु) ।

णहि वि [नखिन्] ऊपर देखो (अणु १४२) ।

णहि अ [नहि] निपेवार्यक अव्यय, नहीं (स्वप्न ४१; पिंग, सण) ।

णहु अ [नखलु] ऊपर देखो (नाट—मुच्छ २६१; णया १, ६) ।

णा सक [ज्ञा] जानना, समझना । भवि.

णाहिइ (विसे १०१३) । णाहिसि (पि ५३४) । कर्म. णव्वइ, णज्जइ (हे ४, २५२) । क्वक. णज्जंत, णज्जमाण (से १३, ११; उप १००१ टी) । संक. णाउं, णाऊण, णाऊणं, णञ्जा, णञ्जाणं (महा; पि ५८६; औप; सूत्र १, २, ३; पि ५८७) ।

क. णायव्व, णेअ (भग, जी ६; सुर ४, ७०; दं २; हे २, १६३; नव ३१) ।

णा अ [न] निपेव-सूचक अव्यय (गउड) ।

णाअअ } देखो णायग (प्राक् २६) ।  
णाअक }

णाअक (अप) देखो णायग (पिंग) ।  
णाइ पुं [ज्ञाति] इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न क्षत्रिय-विशेष । °पुत्त पुं [°पुत्र] भगवान् श्री महावीर (आचा) । °सुय पुं [°सुत] भगवान् श्री महावीर (आचा) ।

णाइ स्त्री [ज्ञाति] १ नात, समान जाति (पउम १००, ११; औप; उवा) । २ माता-पिता आदि स्वजन, सगा (णया १, १) । ३ ज्ञान, बोध (आचा; ठा ५, ३) ।

पाइ (अप) देखो इय (कुमा) ।  
 पाइ (अप) नीचे देखो (भवि) ।  
 पाइं देखो ण = न (हे २, १६०; उवा) ।  
 पाइणी (अप) स्त्री [नागी] नागिन, सपिणी (भवि) ।  
 पाइत्त } पुं [दे] जहाज द्वारा व्यापार  
 पाइत्तग } करनेवाला सौदागर (उप पृ १०१, उप ५६२) ।  
 पाइय वि [नादित] १ उक्त, कवित, पुकारा हुआ (खाया १, १; औप) । २ न. आवाज, शब्द (खाया १, १) । ३ प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि (राय) ।  
 पाइल पुं [नागिल] १ स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि (कप्प) । २ जैन मुनियों का एक वंश (पउम ११८, ११७) । ३ एक श्रेणी (महानि ४) ।  
 पाइला } स्त्री [नागिला] जैन मुनियों की  
 पाइली } एक शाखा (कप्प) ।  
 पाइल्ल देखो पाइल (विचार ५३४) ।  
 पाइय वि [ज्ञातिमत्] स्वजन-युक्त, नातेदार (उत्त ४) ।  
 पाड वि [ज्ञात्] जानकार, जाननेवाला (द्र ६) ।  
 पाउडु पुं [दे] १ सद्भाव, सन्निष्ठा । २ अभिप्राय । ३ मनोरथ, वाञ्छा (दे ४, ४७) ।  
 पाउल्ल वि [दे] गोमान्, जिसके पास अनेक नैया हों (दे ४, २३) ।  
 पाउं }  
 पाऊण } देखो पा = ज्ञा ।  
 पाऊणं }  
 पाग पुंन [नाक] स्वर्ग, देवलोक (उप ७१२) ।  
 पाग पुं [नाग] १ सर्प, साँप (पउम ८, १७८) । २ भवनपति देवों की एक अवान्तर जाति, नाग-कुमार देव (एदि) । ३ हस्ती, हाथी (औप) । ४ वृक्ष-विशेष (कप्प) । ५ स्वनाम-ख्यात एक गृहस्य (अंत ४) । ६ एक प्रसिद्ध वंश । ७ नाग-वंश में उत्पन्न (राज) । ८ एक जैन आचार्य (कप्प) । ९ स्वनाम-ख्यात एक द्वीप । १० एक समुद्र (सुज १६) । ११ वज्रकार-पर्वत विशेष (ठा २, ३) । १२ न. ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर करण (विसे ३३५०) । कुमार पुं [कुमार]

भवनपति देवों की एक अवान्तर जाति (सम ६६) । कैसर पुं [कैसर] पुष्प-प्रधान वनस्पति-विशेष (राज) । गह पुं [गह] नाग देवता के अविश से उत्पन्न ज्वर आदि (जीव ३) । जण, जण पुं [जण] नाग पूजा-नाग देवता का उत्सव (खाया १; ८) । जुण पुं [जुण] एक स्वनाम-ख्यात जैन आचार्य (एदि) । दंत पुं [दन्त] खूँटी (जीव ३) । दत्त पुं [दत्त] १ एक स्वनाम-ख्यात राज-पुत्र (ठा ३, ४; सुपा ५३५) । २ एक श्रेष्ठ-पुत्र (आक) । पइ पुं [पति] नाग कुमार देवों का राजा, नागेन्द्र (औप) । पुर न [पुर] नगर-विशेष (पउम २०, १०) । वाण पुं [वाण] दिव्य अस्त्र-विशेष (जीव ३) । भद्र पुं [भद्र] नाग द्वीप का अघिष्ठाता देव (सुज १६) । भूय न [भूत] जैन मुनियों का एक कुल (कप्प) । महाभद्र पुं [महाभद्र] नागद्वीप का एक अघिष्ठातक देव (सुज १६) । महायर पुं [महायर] नाग समुद्र का अधिपति देव (सुज १६; इक) । मित्र पुं [मित्र] स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि, जो आर्य महागिरि के शिष्य थे (कप्प) । राय पुं [राज] नागकुमार देवों का स्वामी, इन्द्र-विशेष (पउम ३, १४७) । रूखल पुं [रूखल] वृक्ष-विशेष (ठा ८) । लथा स्त्री [लता] बल्ली-विशेष, ताम्बूली लता (परण १) । वर पुं [वर] १ श्रेष्ठ सर्प । २ उत्तम हाथी (औप) । ३ नाग समुद्र का अधिपति देव (सुज १६) । वल्ली स्त्री [वल्ली] लता-विशेष (सण) । सिरी स्त्री [श्री] द्रौपदी के पूर्व जन्म का नाम (उप ६४८ टी) । सुहुम न [सूक्ष्म] एक जैनतर शास्त्र (अणु) । सेण पुं [सेन] एक स्वनाम-ख्यात गृहस्य (यावम) । हस्ति पुं [हस्तिन्] एक प्राचीन जैन ऋषि (एदि) ।

पागणिय न [नागन्य] नग्नता, नंगापन (सूत्र १, ७) ।

पागदत्ता स्त्री [नागदत्ता] चौदहवें जिनदेव की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) ।

पागपरियावणिया स्त्री [नागपरियापनिका] एक जैन शास्त्र (एदि २०२) ।

पागर वि [नागर] १ नगर-सम्बन्धी । २ नगर का निवासी, नागरिक (सुर ३, ६६; महा) ।

पागरिअ पुं [नागरिक] नगर का रहनेवाला (रंभा) ।

पागरिआ स्त्री [नागरिका] नगर में रहनेवाली स्त्री (महा) ।

पागरी स्त्री [नागरी] १ नगर में रहनेवाली स्त्री । २ लिपि विशेष, हिन्दो लिपि (विसे ४६४ टी) ।

पागिद पुं [नागेन्द्र] १ नाग देवों का इन्द्र । २ शेषनाग (सुपा ७७; ६३६) ।

पागिणी स्त्री [नागी] १ नागिन । २ एक वणिक-पुत्री (सुप्र ५०८) ।

पागिल देखो पाइल (राज) ।

पागी स्त्री [नागी] नागिन, सपिणी (याव ४) ।

पागोद देखो पागिद (खाया १, ८) ।

पागोद पुं [नागोद] एक समुद्र (सुज १६) ।

पाड देखो पाट्ट = नाट्य (खाया १, १ टी—पत्र ४३) ।

पाडइज्ज वि [नाटकीय] नाटक-सम्बन्धी, नाटक में भाग लेनेवाला पात्र (खाया १-१; कप्प) ।

पाडइणो स्त्री [नाटकिनी] १ नर्तकी, नाचनेवाली स्त्री (वृह ३) ।

पाडग } न [नाटक] १ नाटक, अभिनय,  
 पाडय } नाट्य-क्रिया (वृह १; सुपा १०३५६,  
 सार्ध ६५) । २ रंग-शाला में खेलने में उपयुक्त काव्य (हे ४, २७०) ।

पाडाल देखो पाडाल (गउड) ।

पाडि स्त्री [नाडि] १ रज्जु, बरसा । २ नाड़ी, नस, सिरा (कुमा) ।

पाडी स्त्री [नाडी] ऊपर देखो (हे १, २०२) ।

पाडीअ पुं [नाडीक] वनस्पति-विशेष (भग १०, ७) ।

पाण न [ज्ञान] ज्ञान, बोध, चैतन्य, बुद्धि (भग ८, २; हे २, ४२; कुमा; प्रासू २८) । धर वि [धर] जानी, जानकार, विद्वान् (सुपा ५०८) । प्पवाय न [प्रवाद]

जैन ग्रन्थांश-विशेष, पांचवां पूर्व (सम २६) ।  
 °मायार देखो °यार (पडि) । °व, वंत वि  
 [°वत्] ज्ञानी, विद्वान् (पि ३४८; आचा;  
 अचु ४६) । °वि वि [°वित्] ज्ञान-वेत्ता  
 (आचा) । °यार पुं [°चार] ज्ञान-विषयक  
 शास्त्रोक्त विधि (राज) । °वरण न [°वरण]  
 ज्ञान का आच्छादक कर्म (धण ४४) ।  
 °वरणिज्ज न [°वरणीय] अनन्तर उक्त  
 अर्थ (सम ६६; औप) ।

पाणक } न [दे] सिक्का; मुद्रा (मृच्छ १७;  
 पाणग } राज) ।

पाणत न [नानात्व] भेद, विशेष, अन्तर  
 (ओष ६१८) ।

पाणता स्त्री [नानाता] ऊपर देखो (विसे  
 २१६१) ।

पाणा अ [नाना] अनेक, जुदा-जुदा (उवा;  
 भग; सुर १, ८६) । °विह वि [°विध]  
 अनेक प्रकार का, विविध (जीव ३, सुर ४,  
 २४५, दं १३) ।

पाणि वि [ज्ञानिन्] ज्ञानी, जानकार, विद्वान्  
 (आचा; उव) ।

पादिय देखो पाइय (कप्प) ।

पाभि पुं [नाभि] १ स्वनाम-ख्यात एक  
 कुलकर पुरुष, भगवान् ऋषभदेव का पिता  
 (सम १५०) । २ पेट का मध्य भाग । ३  
 गाड़ी का एक अवयव (दस ७) । °नंदण पुं  
 [°नन्दन] भगवान् ऋषभदेव (पउम ४, ६८) ।

पाम सक [नमय्] १ नमाना, नीचा  
 करना । २ उपस्थित करना । ३ अर्पण  
 करना । एामेइ (हेका ४६) । वक्क. गामयंत  
 (विसे २६६०) । संक. गामित्ता (निचु १) ।

पाम पुं [नाम] १ परिणाम, भाव (भग २५,  
 ५) । २ नमन (विसे २१७६) ।

पाम अ [नाम] संभावना-सूचक अव्यय (सूत्र  
 १, १२, ३) ।

पाम अ [नाम] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
 संभावना (से. ५, ४) । २ आमन्त्रण, संवोधन  
 (बृह ३; जं १) । ३ प्रसिद्धि, ह्याति (कप्प) ।  
 ४ अनुज्ञा, अनुमति (विसे) । ५—६ वाक्या-  
 लंकार पाद-भूति में भी इतका प्रयोग होता है  
 (ठा ४; १; राज) ।

पाम न [नामन्] नाम, आख्या, अभिधान  
 (विपा १, १; विसे २५) । °कम्म न  
 [°कर्मन्] कर्म-विशेष, विचित्र परिणाम का  
 कारण-भूत कर्म (स ६७) । °धिज्ज, °धेज्ज  
 °धेय न [°धेय] नाम, आख्या (कप्प; सम  
 ७१; पउम ४, ८०) । °पुर न [°पुर] एक  
 विद्याघर-नगर (इक) । °मुद्रा स्त्री [°मुद्रा]  
 नाम से अंकित मुद्रा (पउम ५, ३२) ।  
 °सच्च वि [°सत्य] नाम-मात्र से सच्चा, नाम-  
 धारी (ठा १०) । °हेअ देखो °धेय (पउम  
 २०, १७६; स्पण ४३) ।

पामण न [नमन] नमाना, नीचा करना  
 (विसे ३००८) ।

पाममंतक्ख पुं [दे] अपराध, गुनाह (गउड) ।  
 पामागोत्त न [नामगोत्र] १ यथार्थ नाम ।  
 २ नाम तथा गोत्र (सुज १६) ।

पामिय वि [नमित] नमाया हुआ (साधं  
 ८०) ।

पामिय न [नामिक] वाचक-शब्द, पद (विसे  
 १००३) ।

पामुक्कसिअ } न [दे] कार्य, काम, काज  
 पामोक्कसिअ } (हे २, १७४; दे. ४, २५) ।

पाय वि [दे] गविष्ठ, अभिमानी (दे ४, २३) ।  
 पाय देखो पाग (काप्र ७७७; कप्प; औप;  
 गउड; वजा १४; सुपा ६३६; पउम २१,  
 ४६) ।

पाय पुं [नाद] शब्द, आवाज, ध्वनि (औप;  
 पउम २२, ३८; स २१३) ।

पाय पुं [न्याय] १ अक्षपाद—प्रणीत न्याय-  
 शास्त्र (सुख ३, १; धर्मवि ३८) । २ सामयिक  
 आदि पद-कर्म (अणु ३१) ।

पाय पुं [नाद] अनुनासिक वर्ण, अर्धचन्द्राकार  
 अक्षर-विशेष (सिरि १६६) ।

पाय वि [न्याय्य] न्याय-युक्त (सूत्र १, १३,  
 ६) ।

पाय पुं [न्याय] १ न्याय, नीति (औप;  
 स १५६; आचा) । २ उपपत्ति, प्रमाण  
 (पंचा ४; विसे) । °कारि वि [°कारिन्]  
 न्याय-कर्ता (आचु १) °गर वि [°कर]  
 १ न्याय-कर्ता । पुं. न्यायाधीश (था १४) ।  
 °ण वि [°ज्ञ] न्याय का जानकार (उप  
 ३४६) ।

पाय पुं [नाक] स्वर्ग, देव-लोक (पाम) ।  
 पाय पुं [ज्ञात] १ भगवान् महावीर (सूत्र १,  
 २, २, ३१) । २ वि. प्रसिद्ध (सूत्र १, ६, २१) ।  
 पाय वि [ज्ञात] १ जाना हुआ, विदित (उव;  
 सुर २, ३६) । २ ज्ञाति संबन्धी, सगा, एक  
 विरादरी का (कप्प; आउ ६) । ३ वंश-  
 विशेष में उत्पन्न (औप) । ४ पुं. वंश-  
 विशेष (ठा ६) । ५ क्षत्रिय-विशेष (सूत्र १,  
 ६; कप्प) । ६ न. उदाहरण, दृष्टान्त (उव;  
 सुपा १२८) । °कुमार पुं [°कुमार] ज्ञात-  
 वंशीय राज-पुत्र (एाया १, ८) । °कुल न  
 [°कुल] वंश-विशेष (परह १, ३) । °कुल-  
 चंद पुं [°कुलचन्द्र] भगवान् श्री महावीर  
 (आचा) । कुलनंदण पुं [कुलनन्दन]  
 भगवान् श्री महावीर (परह १, १) । °पुत्त पुं  
 [°पुत्र] भगवान् श्री महावीर (आचा) ।  
 °मुणि पुं [°मुनि] भगवान् श्री महावीर  
 (परह २, १) । °विहि पुं स्त्री [°विधि] माता  
 या पिता के द्वारा संबन्ध, संबन्धिपन (वव  
 ६) । °संड न [°पण्ड] उद्यान-विशेष, जहाँ  
 भगवान् श्रीमहावीर देव ने दीक्षा ली थी  
 (आचा २, ३, १) । °सुय पुं [°सुत]  
 भगवान् श्रीमहावीर । °सुय न [°श्रुत]  
 'ज्ञाताधर्मकथा' नामक जैन आगम-ग्रन्थ (एाया  
 २, १) । °धम्मकहा स्त्री [°धर्मकथा]  
 जैन आगम-ग्रन्थ-विशेष (सम १) )  
 पायग पुं [नायक] हार के बीच की मणि,  
 सुमेरु (स ६८६) ।  
 पायग पुं [नायक] नेता, मुखिया, अग्रग्रा  
 (उप ६४८ टी; कप्प; सम १; सुपा २२) ।  
 पायत्त पुं [दे] समुद्र मार्ग से व्यापार करने-  
 वाला वणिक्, 'पवहणवाणिज्जपरा सुहंकरा  
 आसि नाम नायत्ता' (उप ५६७ टी) ।  
 पायर देखो पागर (महा; सुपा १८८) ।  
 पायरिय देखो पागरिय (सुर १४, १३३) ।  
 स्त्री. °या (भवि) ।  
 पायरी देखो पागरी (भवि) ।  
 पायव्व देखो पा = ज्ञा ।  
 पार पुं [नार] चतुर्थ नरक-श्रुतिवी का एक  
 प्रस्तर (इक) ।  
 पारइअ वि [नारकि] १ नरक श्रुतिवी में  
 उत्पन्न, नारकी । २ पुं. नरक का जीव (हे  
 १, ७६) ।

पारंग पुं [नारङ्ग] ? वृक्ष-विशेष, संतरे का वृक्ष । २ न. फल-विशेष, कमला नीवू, संतरा (पउम ४१, ६; सुपा २३०; ५६३; गडड; कुमा) ।  
 पारंग देखो पारय = नारक (विसे १६००) ।  
 पारद देखो पारय (प्रयौ ५१) ।  
 पारदीअ वि [नारदीय] नारद-सम्बन्धी, नारद का (प्रयौ ५१) ।  
 पारय पुं [नारद] ? मृनि-विशेष, नारद ऋषि (सम १५४ उप ६४८ टी) । २ गन्धर्व सैन्य का अधिपति देव-विशेष (ठा ७) ।  
 पारय वि [नारक] ? नरक में उत्पन्न, नरक-संबन्धी, नरक का; 'जायए नारयं दुक्कं' (सुपा १६२) । २ पुं. नरक में उत्पन्न प्राणी; नरक का जीव (भग) ।  
 पारसिंह वि [नारसिंह] नरसिंह-सम्बन्धी (उप ६४८ टी) ।  
 पाराय पुं [नाराच] तौलने की छोटी तराजू, कांटा; 'नाराय निरक्खर लोहवत दोमुह य तुज्ज कि भणिमो । पुंजाए समं कणयं तौलतो कह न लज्जे सि ?' (वज्जा १५८; १५९) ।  
 पाराय देखो पाराअ (हे १, ६७; उवा; सम १४६; अवि १४) । तुला, गु० ताजूडी (पुप्य-माला ४६, ८६) । °वज्ज न [°वज्ज] संहनन-विशेष (पउम ३, १०६) ।  
 पारायण पुं [नारायण] ? विष्णु, श्रीकृष्ण (कुमा; स ६२२) । २ अर्थ-चक्रवर्ती राजा (पउम ५, १२२; ७३, २०) ।  
 पारायण पुं [नारायण] एक ऋषि (सूत्र १, ३, ४; २) ।  
 पारायणी स्त्री [नारायणी] देवी-विशेष, गौरी, दुर्गा (गडड) ।  
 पारिं देखो पारी (कप्य; राज) । °कंता स्त्री [°कान्ता] नदी-विशेष (सम २७; ठा २, ३) ।  
 पारिएर पुं [नारिकेल] ? नारियल का पारिएल } पड़ । २ न. नारियल या नरियर का फल (अभि १२७; पि १२८) । देखो पालिएर ।  
 पारिंग न [नारिङ्ग] नारंगी का फल, नीठा नीवू, कमला नीवू (कप्य) ।  
 पारी स्त्री [नारी] ? स्त्री, औरत, जनाना, महिला (हिका २२८; प्रासू ६२; १५६) ।

२ नदी-विशेष (इक) । °कंतप्पयाय पुं [°कान्ताप्रपात] द्रह-विशेष (ठा २, ३) । देखो पारिं ।  
 पारुट्ट पुं [दे] कूसार, गर्ताकार स्यान (पाय) ।  
 पारोट्ट पुं [दे] ? विल, साँप आदि का रहने का स्यान, विवर । २ कूसार, गर्ताकार स्यान (दे ४, २३) ।  
 पाल न [नाल] ? कमल-दण्ड (से १, २८) । २ नल्ल का आवरण (उप ६७४) ।  
 पालंदइज्ज वि [नालन्दीय] ? नालन्दा-संबन्धी । न. नालन्दा के समीप में प्रतिपादित अथ्ययन-विशेष, 'सूत्रकुतांग' सूत्र का सातवाँ अथ्ययन (सूत्र २, ७) ।  
 पालन्दा स्त्री [नालन्दा] राजगृह नगर का एक गृहला (कप्य; सूत्र २, ७) ।  
 पालंपिअ न [दे] आरुन्दित, आरुन्द-व्यनि (दे ४, २४) ।  
 पालंवि पुं [दे] कुत्तल, केश कलाप (दे ४, २५) ।  
 पालय न [नालक] द्यूत-विशेष (मोह ८६) ।  
 पाला } स्त्री [नाडि] नाड़ी, नत्त, सिरा (से १, पालि } २८; कुमा) ।  
 पालि स्त्री [नालि] परिमाण-विशेष, अंजली (आवक ३५) ।  
 पालि वि [दे] वस्त, गिरा हुआ (पड्) ।  
 पालिअ वि [दे] मूड, मूर्ख, अज्ञान (से ४, ४२२) ।  
 पालिअर देखो पारिएर (दे २, १०; पउम १, २०) । °दीव पुं [°दीप] दीप-विशेष (कम्म १, १६) ।  
 पालिआ } स्त्री [नालिका] ? नाल, डंडी, पालिगा } कमल की डंडी (दस ५, २, १८) । २ परिमाण-विशेष, दंड, वनस्प (अणु १५७) । ३ अर्थ-मुहूर्त का समय; 'दो नालिया मुहुत्तो' (तंडु ३२) । ४ नली; 'जह उ किर नालिगाए वणियं मिडुल्लयमोहभरियाए' (धम्मं ६८०) । °खेडु न [°खेड] द्यूत-विशेष (जं २ टी—पत्र १३६) ।  
 पालिआ स्त्री [नालिका] ? वल्ली-विशेष (दे २, ३) । २ घटिका, घड़ी, काल नापने का एक तरह का यन्त्र (पाय; विसे ६२७) । ३ अपने शरीर से चार अंगुल लम्बी लाठी (श्रौव ३६) । ४ द्यूत-विशेष, एक तरह का

जुआ (श्रीप; नग ६, ७) । °खेडु स्त्री [°कीडा] एक तरह की द्यूत-श्रीडा (श्रीप) ।  
 पालिएर देखो पारिएर (शाया १, ६) ।  
 पालिएरी स्त्री [नारिकेली] नरियर का गोछ (गडड; पि १२६) ।  
 पाली स्त्री [नाली] ? वनस्पति-विशेष, एक लता (परण १) । २ घटिका, घड़ी (जीव ३) ।  
 पाली स्त्री [नाली] ? द्यूत-विशेष (दस ३, ४) । २ तीन हाथ और सोलह अंगुल लंबी लट्टी या लम्बी (वांस) (पव ८१) ।  
 पाली स्त्री [नाडो] नाड़ी, नत्त, सिरा (विपा १, १) ।  
 पालीय वि [नालीय] नाल-संबन्धी (प्राचा) ।  
 पालीया देखो पालिआ (सूत्र १, ६, १८) ।  
 पावइ (अप) देखो इव (हे ४, ४८४; भवि) ।  
 पावण न [दे] दान, वितरण (परह १, ३—पत्र ५३) ।  
 पावा स्त्री [दे] प्रवृत्ति, अंजली, परिमाण-विशेष (पव १०६ टी) ।  
 पावा स्त्री [नौ] नौका, जहाज, नाव (भग; उवा) । °वाणिय पुं [°वाणिज] समुद्र मार्ग से व्यापार करनेवाला वणिक (शाया १, ८) ।  
 पावापूरय पुं [दे] चुडुक, चुल्लु; 'तिहि शावापूरएहि चायामइ' (वृह १) ।  
 पाविअ पुं [नापित] नाई, हजम (हे १, २३०; कुमा; पड्) । °नाला स्त्री [°शाला] नाद्यों का अड्डा (धा १२) ।  
 पाविअ पुं [नाविक] जहाज चलावेवाला, नौका या नाव हांकनेवाला, मल्लाड, केवट, माली (शाया १, ६; मुर १३, ३१) ।  
 पास देखो पारस । पासइ (पड्; महा) ।  
 वड्. पासंत (मुर १, २०२; २, २५) ।  
 क. पासियच्च (मुर ७, १२६) ।  
 पास सक [नाशय्] नाश करना । पासइ (हे ४, ३१) । पासइ (महा; उव) ।  
 पास पुं [नाश] नाश, ध्वंस (प्रासू १५३; पाय) । °यर वि [°कर] नाश-कारक (मुर १२, १६४) ।  
 पास पुं [न्यास] ? स्थापन (गा ६६; उप ३०२) । २ घोरोहर या अमानत, रखने योग्य धन आदि (उप ७६८ टी; धम्मं २) ।

पासग वि [नाशक] नाश करनेवाला (सुर २, ५८) ।  
 पासण न [नाशन] १ पलायन, अपक्रमण भागना (धर्म २) । २ वि. नाश करनेवाला (सि ३, २७; गण २२) । त्ति. णी (सि ३, २७) ।  
 पासग न [न्यासन] न्यापन, रखना, व्यवस्थापन (अणु) ।  
 पासणा ली [नासना] विनाश (विसे २३६) ।  
 पासव सक [नाशय] नाश करना । पासवइ (हे ४, ३१) ।  
 पासविय वि [नाशित] नष्ट किया हुआ, भगाया हुआ (उप ३५७ टी; कुमा) ।  
 पासा ली [नासा] नाक, श्राणेन्द्रिय (गा २२; आत्ता; कुमा) ।  
 पासि वि [नाशिन] विनशर, नष्ट होनेवाला (विसे १६८?) ।  
 पासिक देखो पासिक (संदि १६५) ।  
 पासिक न [नासिक्य] दक्षिण भारत का एक स्वनाम-प्रसिद्ध नगर, जो आजकल भी 'नासिक' नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ शूर्पणखा की नाक कटी थी; मंचवटी (उप पृ २१३; १४१ टी) ।  
 पासिगा ली [नासिका] नाक, श्राणेन्द्रिय (महा) ।  
 पासिय वि [नाशित] नष्ट किया हुआ (महा) ।  
 पासियव्व देखो पास = नश ।  
 पासिर वि [नशित] नष्ट होनेवाला, विनशर (कुमा) ।  
 पासीक्य वि [न्यासीकृत] धरोहर या अमानत रूप से रखा हुआ (था १४) ।  
 पासैक्य देखो पासिक (उप १४?) ।  
 पाह पुं [नाथ] स्वामी, मालिक (कुमा; प्रासु १२; ६६) ।  
 पाहड पुं [नाहट] एक राजा का नाम (ती १५) ।  
 पाहल पुं [लाहल] म्लेच्छ की एक जाति (हे १; २५६; कुमा) ।  
 पाहि देखो पाभि (कुमा; कप्पु) । रूह पुं [रूह] ब्रह्मा; चतुर्मुख (अचु ३६) ।  
 पाहि (अप) अ [नहि] नहीं, ताहीं (हे ४, ४१६; कुमा; मवि) ।

पाहिनाम न [दे] वितान के बीच की रस्ती (दे ४, २४) ।  
 पाहिय वि [नास्तिक] १ परलोक आदि की नहीं माननेवाला । २ पुं. नास्तिक मत का प्रवर्तक । वाइ, वादि वि [वादिन्] नास्तिक मत का अनुयायी (सुर ६, २०; स १६४) । वाय पुं [वाइ] नास्तिक-दर्शन (गच्छ २) ।  
 पाहिविच्छेअ } पुं [दे] जघन, कटी के  
 पाहीए-विच्छेअ } नीच का भाग (दे ४; २४) ।  
 णि अ [नि] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ निश्चय (उत्त १) । २ नियतपन, नियम (ठा १०) । ३ आधिक्य, अतिशय (उत्त १; विपा १, ६) । ४ अयोभाग, नीचे (सण) । ५ नित्यपन । ६ संशय । ७ आदर । ८ उपरम, विराम । ९ अन्तर्भाव, समावेश । १० समीपता, निकटता । ११ क्षेप, निन्दा । १२ बन्धन । १३ निषेध । १४ दान । १५ राशि, समूह । १६ मुक्ति, मोक्ष (हे २, २१७; २१८) । १७ अभिमुखता, संमुखता (सूत्र १, ६) । १८ अल्पता, लघुता (पह १, ४) ।  
 णि अ [निर्] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ निश्चय (उत्त ६) । २ आधिक्य, अतिशय । (उत्त १) । ३ प्रतिषेध, निषेध (सम १३७; सुपा १६८) । ४ वहिर्भाव । ५ निर्गमन, निष्क्रमण (ठा ३, १; सुपा १३) ।  
 णिअ सक [दृश] देखना । णिअइ (पइ; हे ४, १८१) । वरु. णिअंत (कुमा; महा; सुपा २६६) । संक्र. निएडं (मवि) ।  
 णिअ वि [निज] आत्मीय, स्वकीय (गा १५०; कुमा; सुपा ११) ।  
 णिअ वि [नीत] ले जाया गया (सि ५, ६; सण) ।  
 णिअ वि [नीच] नीच, जघन्य, निकृष्ट (कम्म ३, ३) ।  
 णिअ देखो णिय (सूत्र २, ६, ४५) ।  
 णिअइ ली [निकृति] माया, कण्ठ, छल, धोखा (पह १, २) ।  
 णिअइ ली [नियति] १ नियतपन, भवितव्यता, होनी, भाग्य, नियमितता (सूत्र १, १,

३) । २ अवरयं-भाविता (ठा ४, ४; सूत्र १, १, २) । पव्वय पुं [पर्वत] पर्वत-विशेष (जीव ३) । वाइ वि [वादिन्] 'सब कुछ भवितव्यता के अनुसार ही हुआ करता है, प्रयत्न वगैरह अकिञ्चित्कर है' ऐसा माननेवाला, भाग्यवादी या दैववादी (राज) ।  
 णिअंदिअ वि [नियन्त्रित] १ नियमित । २ न. प्रवाह्यान-विशेष, हृष्ट से या रोगी से-अमुक दिन में अमुक तप करने का किया हुआ नियम (पव ४) ।  
 णिअंदिअ वि [नियन्त्रित] १ वैचा हुआ, जकड़ा हुआ । २ न. अवरय-कर्तव्य नियम-विशेष (ठा १०) ।  
 णिअंत वि [निर्ग्रन्थ] १ धन रहित । २ पुं. जैनमुनि, संयत, यति (भग; ठा ३, १; ५, ३) । ३ जिन भगवान् (सूत्र १, ६) ।  
 णिअंत पुं [निर्ग्रन्थ] भगवान् बुद्ध (कुप्र ४४२) ।  
 णिअंदि देखो णिगंथी । पुत्त पुं [पुत्र] १ एक विद्याधर-पुत्र, जिसका दूसरा नाम सत्यकि था (ठा १०) । २ एक जैनमुनि, जो भगवान् महावीर का शिष्य था (भग ५, ८) ।  
 णिअंदिअ वि [निर्ग्रन्थिक] १ निर्ग्रन्थ-संबन्धी । २ जिन देव-संबन्धी । त्ति. 'या; 'एसा आणा णियंठिया' (सूत्र १, ६) ।  
 णिअंठी देखो णिगंथी (ठा ६) ।  
 णिअंत वि [नियत] स्थिर (सूत्र १, ८, १२) ।  
 णिअंत वि [निर्यन्] बाहर निकलता (सम्मत्त १५६) ।  
 णिअंतिय वि [नियन्त्रित] संयमित, जकड़ा हुआ, वैचा हुआ (महा; सण) ।  
 णिअंथण न [दे] वरु, कपड़ा (दे ४, २८) ।  
 णिअंथ पुं [नितम्ब] १ पर्वत का एक भाग, पर्वत का वसति-स्थान (शोध ४०) । २ ली की कमर का पीछला भाग, कमर के नीचे का भाग, चूतड़ (कुमा; गउड) । ३ मूल भाग (सि ८, १०१) । ४ कटी-प्रदेश, कमर (जं ४) ।  
 णिअंविणी ली [नितम्बिनी] १ सुन्दर निवम्बवाली ली । २ ली, महिला (कप्पु; पाय; सुपा ५३८) ।

णिअंस सक [ नि + वस् ] पहतना। रिण्यं-  
सइ (महा)। संकृ. णियंसित्ता (जीव ३;  
पि ७४)। प्रयो. रिण्यंसवेइ (पि ७४)।  
णिअंसण न [ दे. निवसन ] वन्न, कपडा  
(दे ४, ३८; गा ३५१; पाअ; गउड; परह  
१, ३; सुपा १५१; हेका ३१)।  
णिअंसणि लो [ निवसती ] वन्न, कपडा  
(पव ६२)।  
णिअकक सक [ दृश् ] देखना। रिअककइ  
(प्राप्र)।  
णिअककल वि [ दे ] वतुंल, गोलाकार पदायं  
(दे ४, ३६; पाअ)।  
णिअग वि [ निजक ] आत्मीय, स्वकीय (उवा)।  
णिअच्छ सक [ दृश् ] देखना। रिअच्छइ  
(हे ४, १८१)। वकृ. णिअच्छंत, णिअ-  
च्छमाण (गा २३८; गउड; गा ५००)।  
संकृ. णिअच्छऊण, णिअच्छअ (सुर  
१, १५७; कुमा)। कृ. णिअच्छयव्व  
(गउड)।  
णिअच्छ सक [ नि + यम् ] १ नियमन  
करना, नियन्त्रण करना। २ अवश्य प्राप्त  
करना। ३ जोड़ना। संकृ. णिअच्छइत्ता  
(सूत्र १, १, १; २)।  
णिअच्छ अक [ नि + गम् ] १ संगत होना,  
युक्त होना। २ सक. अवश्य प्राप्त करना।  
नियच्छइ (सूत्र १, १, १०; १, १, २,  
१७; १, १, २, १८)।  
णिअच्छअ वि [ दृष्ट ] देखा हुआ (पाअ)।  
णिअट्ट अक [ नि + वृत् ] निवृत्त होना,  
पीछे हटना, रकना। रिअट्टइ (सण)। वकृ.  
णियट्टमाण (आचा)।  
णिअट्ट सक [ निर + वृत् ] बनाना,  
रचना, निर्माण करना (औप)।  
णिअट्ट सक [ नि + अर्द्ध ] अनुसरण करना  
(औप)।  
णिअट्ट पुं [ निवृत्त ] व्यावर्तन, निवृत्ति; अरिण-  
यट्टगामीणं (आचा)।  
णिअट्ट वि [ निवृत्त ] व्यावृत्त, पीछे हटा हुआ  
(वर्म २)।  
णिअट्टि वि [ निवृत्तिन् ] निवृत्त होनेवाला  
(वर्मसं ७६४)।

णिअट्टि लो [ निवृत्ति ] १ निवर्तन, पीछे  
हटना (आचू १)। २ अव्यवसाय-विशेष  
(सम २६)। ३ मोह-रहित अवस्था (सूत्र  
१, ११)। वायर न [ वादर ] १ गुण-  
त्यानक-विशेष (सम २६)। २. पुं. गुण-  
त्यानक-विशेष में वर्तमान जीव (आव ४)।  
णिअट्टिय वि [ निवृत्ति ] व्यावर्तित, पीछे  
हटाया हुआ (औप)।  
णिअट्टिय वि [ निर्वर्तित ] रचित, निर्मित,  
बनाया हुआ (औप)।  
णिअट्टिय वि [ न्यदित ] अनुगत, अनुष्ठत  
(औप)।  
णिअड न [ निकट ] १ निकट, समीप, नज-  
दीक, पास (गा ४०२; पाअ; सुपा ३५२)।  
२ वि. पास का, समीप का (पाअ)।  
णिअडि वि [ निकृतिन् ] मायावी, कपटी  
(वस ६, २३)।  
णिअडि लो [ निकृति ] की हुई ठगई को  
ढकना—छिपाना (राय ११४)।  
णिअडि लो [ दे. निकृति ] माया, कपट  
(दे ४, २६; परह १, २; सम ५१; भा  
१२, ५; सूत्र २, २; याया १, १८;  
आव ५)।  
णिअडिअ वि [ निगडित ] नियन्त्रित, जकड़ा  
हुआ (गा ५५६; उप वृ ५२; सुपा ६३)।  
णिअडिअ वि [ निकटिक ] समीप-वर्ती,  
पार्श्व में स्थित (कप्पु)।  
णिअडिइ वि [ निकृतिमत ] कपटी, मायावी  
(ठा ४, ४; औप; भग ८, ६)।  
णिअड्ड सक [ नि + कृप् ] खींचना।  
संकृ. नियडिडऊणं (सम्मत् २२७)।  
णिअण वि [ नग्न ] नंगा, वस्त्र-रहित (पव  
२७१)।  
णिअत्त वि [ निकृत्त ] काटा हुआ, छिल  
(भग ६, ३३)।  
णिअत्त वि [ नित्य ] शाश्वत, अविनश्वर;  
'सुखं जमनियत्तं' (तंडु ३३; सूत्र १, १,  
१, १६)।  
णिअत्त देखो णिअट्ट = नि + वृत्। रिअत्तइ  
(महा; पि २८६)। वकृ. णिअत्तंत, णिअत्त-  
माण (गा ७६, ५३७; से ५, ६७; नाट)।  
प्रयो. रिअत्तावेहि (पि २८६)।

णिअत्त देखो णिअट्ट = निवृत्त (पउम २२,  
६२; गा ६५८; सुपा ३१७)।  
णिअत्तण न [ निवृत्त ] १ नूमि का एक  
नाप (उवा)। २ निवृत्ति, व्यावर्तन (आव ४)।  
णिअत्तणिय वि [ निवृत्तनिक ] निवृत्तन  
परिमाणवाला (भग ३, १)।  
णिअत्ति देखो णिअट्टि (उत्त ३१)।  
णिअत्थ वि [ दे ] १ परिहित, पहना हुआ  
(दे ४; ३३; आवम; भवि)। २ परिधापित,  
जिसको वस्त्र आदि पहनाया गया हो वह;  
'रिण्यत्था तो गरियाए' (विसे २६०७)।  
णिअट्ट सक [ नि + गट् ] कहना, बोलना।  
रिअट्टदि (शौ) (नाट—चैत ४५)। वकृ.  
णिअट्टत (नाट)।  
णिअट्टिय देखो णिअट्टिय = न्यदित (राज)।  
णिअट्टण न [ दे ] परिवान, पहनने का वस्त्र  
(पड्)।  
णिअम सक [ नि + यमय् ] नियन्त्रित  
करना, नियम में रखना। संकृ. णिअमेऊण  
(पि ५८६)।  
णिअम सक [ नि + यमय् ] १ रोकना।  
२ वचन से कराना। ३ शरीर से कराना।  
नियमे (आचा २, १३, १)।  
णिअम पुं [ नियम ] १ निश्चय (जी १४)।  
२ ली हुई प्रतिज्ञा, व्रत; 'परिवाविज्जइ  
रिअममा रिअमसमती तुमे मज्ज' (उप ७२८  
टी)। ३ प्रायोपवेशन, संकल्प-पूर्वक अनशन-  
मरण के लिए उद्यम (से ५, २)। 'सा अ  
[ सात् ] नियम से (औप)। 'सो अ  
[ शस् ] निश्चय से (आ १४)।  
णिअमण न [ नियमन ] नियन्त्रण, संयमन  
(विसे १२५८)।  
णिअमिअ वि [ नियमित ] नियम में रखा  
हुआ, नियन्त्रित (से ४, ३७)।  
णिअय न [ दे ] १ रत्त, मैथुन। २ शयनीय,  
शय्या। ३ घट, घड़ा, कलश (दे ४, ४८)।  
४ वि. शाश्वत, नित्य (दे ४, ४८; पाअ;  
सूत्र १, ८; राय)।  
णिअय वि [ निजक ] निजका, स्वकीय,  
आत्मीय, अपना (पाअ)।  
णिअय वि [ नियत ] नियम-बद्ध, नियमानुसारी  
(उवा)।

गिअया त्ती [नियता] जम्बू-वृद्ध विशेष,  
जिससे यह जम्बू-द्वीप कहलाता है (इक) ।  
गिअर पुं [निकर] राशि, समूह, जत्था, डेर  
(गा ५६६; पात्र गउड) ।  
गिअरण न [दे] दण्ड, शिक्षा (स ४४६) ।  
गिअरिअ वि [दे] राशि स्व ने स्वित (दे  
४, ३८) ।  
गिअल न [दे] नूपुर, पैजनी या पावजेव,  
खी का पादाभरण-विशेष (दे ४, २८) ।  
गिअल पुं [निगड] वेड़ी, स.कल (सि ३, ८;  
विपा १, ६) । देखो गिगल ।  
गिअलाइअ वि [निगडित] सांकेतिक से  
गिअलाविअ नियन्त्रित, जकड़ा हुआ (गा  
गिअलिअ ४५४; ५००; पात्र; गउड, से  
५, ४८) ।  
गिअल्ल पुं [दे. नित्य] ग्रहाविद्यायक देव-  
विशेष (ठा २, ३) ।  
गिअल्ल वि [निज] स्वकीय, आत्मीय (महा) ।  
गिअस देखो गिअंस । नियतइ (सुपा ६२) ।  
गिअसण देखो गिअंसण (हेका ५६; काप्र  
२०१) ।  
गिअसिय वि [नियसित] परिहित, पहना  
हुआ (सुपा १५३) ।  
गिअह देखो गिअह (नाट—मानतो १३८) ।  
गिआ त्ती [निदा] प्राणि-हिता (पिड १०३) ।  
गिआ<sup>०</sup> देखो गिअय = (दे) । °वाइ वि  
[°वादिन्] नित्यवादी, पदार्थ को नित्य  
माननेवाला (ठा ८) ।  
गिआइय देखो गिकाइय (सूत्र १, ६) ।  
गिआगं पुं [नियाग] १ नियत योग । २  
निश्चित पूजा । ३ मोक्ष, मुक्ति (आचा;  
सूत्र १, १, २) । ४ न. आमन्त्रण देकर  
जो निदा दी जाय वह (दस ३) ।  
गिआग देखो पाय = न्याय (आचा) ।  
गिआण न [निदान] १ आरम्भ, सावध  
व्यापार (सूत्र १, १०, १) । २ रोग-कारण,  
रोग को पहचान (पिड ४५६) ।  
गिआण न [निदान] १ कारण, हेतु;  
'अहो अप्पं नियाणं महंतो विवाधो' (स  
३६०; पात्र; राया १, १३) । २ किसी  
व्रतानुष्ठान को फल-प्राप्ति का अभिलाष

संकल्प-विशेष (आ ३३; ठा १०) । ३  
मूल कारण (आचा) । °कड वि [°कृत्]  
जिसने अपने शुमानुष्ठान के फल का अभिलाष  
किया हो वह (सम १५३) । °कारि वि  
[°कारिन्] वही अन्तर उक्त अर्थ (ठा ६) ।  
गिआण न [निपाण] कूप या तालाब के पास  
पशुओं के जल पीने के लिए बनाया हुआ जल-  
कुएड, आहाव, हौदी, चरही; 'पइमवणं पइहहं  
पइमगं पइसहं पइनियाणं' (स ७२८ टी) ।  
गिआणिआ त्ती [दे] खराब टूणों का  
जमूलन (दे ४, ३५) ।  
गिआम देखो गिअम = नियम । संकृ.  
उपसंगा गिआमित्ता आनोवखाए परिक्खए'  
(सूत्र १, ३, ३) ।  
गिआम देखो गिआम (सूत्र १, १०, ८) ।  
गिआमग वि [नियामक] नियम-कर्ता,  
गिआमय वि [नियता] (सुपा ३१६) । २  
तिश्चायक, विनिगमक (विसे ३४७०, स  
१७०) ।  
गिआमिअ वि [नियमित] नियम में रखा  
हुआ, नियन्त्रित (स २६३) ।  
गिआय पुं [नियग] प्रयत्न धर्म (सूत्र १;  
१, २, २०) ।  
गिआर सक [काणेशित कृ] कानी नजर से  
देखना । गिआरइ (हे ४, ६६) ।  
गिआरिअ वि [काणेशितकृत] १ कानी  
नजर से देखा हुआ, आधी नजर से देखा  
हुआ । २ न. आधी नजर से निरीक्षण  
(कुमा) ।  
गिआह पुं [निदाव] १ ग्रीष्म काल, ग्रीष्म  
ऋतु । २ उष्ण, धर्म, गरमी (गउड) ।  
गिइअ वि [नैत्यिक] नित्य का, 'निदए  
पिडे दिज्जइ' (आचा २, १, १, ६) ।  
गिइग वि [दे. नित्य, नैत्यिक] नित्य,  
गिइय वि शश्वत, अविनश्वर (पएह २, ४—  
पत्र १४१; सूत्र १, १, ४; २, ४; एंदि;  
आचा, सम १३२) ।  
गिइय वि [निष्कृप] निर्दय, कठोर (प्राक २६) ।  
गिउअ वि [निवृत्त] परिकेष्टित, परीक्षित  
(हे १, १३१) ।  
गिउअ वि [नियुत] सुसंगत; सुच्छिद्य (राया  
१, १८) ।

गिउंविअ वि [निकुञ्चित] संकुचित, संकुचा  
हुआ, थोड़ा मुड़ा हुआ (गा ५६३; से ६,  
१६; पात्र; स ३३५) ।  
गिउंज सक [नि + युज्] जोड़ना, संयुक्त  
करना, किसी कार्य में लगाना । कर्म. एिउं-  
जोयसि (पि ५४६) । वकृ. गिउंजमाण  
(सूत्र १, १०) । संकृ. निउंजिऊण, निउंजिय  
(स १०४; महा) । कृ. गिउंजियव्व,  
गिउत्तव्व (उप पृ १०; कुमा) ।  
गिउंज पुं [निकुञ्ज] १ गहन, लता आदि  
से निविद्ध स्थान (कुमा; गा २१७) । २  
गह्वर (दे ६, १२३) ।  
गिउंभ पुं [निकुम्भ] कुम्भकण का एक  
पुत्र (सि १२, ६२) ।  
गिउंभिला त्ती [निकुम्भिला] यज्ञ-स्थान  
(सि १५, ३६) ।  
गिउइ वि [दे] तूष्णीक, मौन रहनेवाला  
(दे ४, २७; पात्र) ।  
गिउइण पुं [दे] १ वायस, काक, कौआ ।  
२ वि. मूक, वाक्-शक्ति से हीन (दे ४, ५१) ।  
गिउज्ज न [न्युज्ज] आसन-विशेष (एंदि  
१२८ टी) ।  
गिउज्जम वि [निस्यम] उद्यम-रहित,  
आलसी (सूत्र २, २) ।  
गिउडु अक [मस्ज्, नि + वृड्] मज्जन  
करना, इवना । गिउडुइ (हे १, १०२) ।  
वकृ. गिउडुमाण (कुमा) ।  
गिउडु वि [मग्न, निवृद्धित] इवा हुआ,  
निमग्न (सि १०, १५; १५, ७४) ।  
गिउण वि [निपुण] १ दक्ष, चतुर, कुशल  
(पात्र; स्वप्न ५३; प्रासू ११; जो ६) । २  
मूढम, जो सूक्ष्म बुद्धि से जाना जा सकें (जो  
२; राय) । ३ जिवि. दक्षता से, चतुराई से,  
कुशलता से (जोव ३) ।  
गिउण वि [निपुण] १ नियत गुणवाला । २  
निश्चित गुण से युक्त (राज) । ३ सुनिश्चित,  
विनिर्णीत (पंचा ४) ।  
गिउणिय वि [नैपुणिक] निपुण, दक्ष, चतुर  
(ठा ६) ।  
गिउत्त वि [नियुक्त] १ व्यापारित, कार्य में  
लगाया हुआ (पंचा ८) । २ निवद्ध (विसे  
३८८) ।



गिउत्त वि [निवृत्त] विरत, उपरत, विमुख,  
विरक्त (प्राह्ण ८)।  
गिउत्त वि [निर्वृत्त] निष्पन्न, सिद्ध (उत्तर  
१०४)।  
गिउत्तव्य देखो गिउत्त = नि + युच्।  
गिउत्ति व्री [निवृत्ति] विराम (प्राह्ण ८)।  
गिउद्ध न [नियुद्ध] बाहु-युद्ध, कुस्ती (उप  
२६२)।  
गिउर पुं [निकुर] वृक्ष-विशेष (साया १,  
६ पत्र १६०)।  
गिउर न [नूपुर] व्री के पांव का एक  
आभरण, पैजनी, पायल (हे १, १२३; कुमा)।  
गिउर वि [दे] १ छिन्न, काटा हुआ। २  
जीर्ण, पुराना (पड्)।  
गिउरं व न [निकुरन्व] समूह, जत्या (पाम्र;  
सुर ३, ६१; गा ४६५; सुपा ४५४)।  
गिउरं व न [निकुरन्व] समूह, जत्या (स  
४३७; गा ४६५ अ; पि १७७)।  
गिउल्ल पुं [दे] गांठ, गठरी; 'एवं बहु भण्ड-  
ऊणं समपिओ दवणनिउजोत्ति' (महा)।  
गिउळ वि [निगूळ] गुप्त, प्रच्छन्न, छिपा  
हुआ (अच्छु ४५)।  
गिएअ वि [नियत] नियम-युक्त, 'अणिए-  
अचारो' (सूत्र १, ६, ६)।  
गिएल्ल देखो गिअल्ल = निज (आवम)।  
गिओअ सक [नि + योजय] किसी कार्य  
में लगाना। गिओएदि (सौ) (नाट—विक्र  
५)।  
गिओअ देखो गिओग (सि ८, २६; अंनि  
२७; सण; से ३४८)। १० आजा, आदेश  
(स २१४)।  
गिओइअ वि [नियोजित] नियुक्त किया  
हुआ, किसी कार्य में लगाया हुआ (स ४४२;  
अंनि ६६)।  
गिओइअ वि [नैयोगिक] नियोग-सम्बन्धी  
(प्राह्ण ६)।  
गिओग पुं [नियोग] मोक्ष, मुक्ति (सूत्र १,  
१, १६, ५)।  
गिओग पुं [नियोग] १ नियम, आवश्यक  
कर्तव्य (वित्ते १८७६; पंचव ४)। २ सम्बन्ध,  
नियोजन (वृह १)। ३ अनुयोग, सूत्र की

व्याख्या (वित्ते) ४ व्यापार, कार्य (वव २)।  
५ अधिकार-प्रेरण (महा)। ६ राजा, नृप,  
आजा-विधाता (जीत)। ७ गांव, ग्राम; ८  
क्षेत्र, भूमि (वृह १)। ९ संयम, त्याग (सूत्र  
१, १६)। देखो गिओअ। °पुर न [°पुर]  
१ राजधानी। २ देश, राष्ट्र। ३ राज्य  
(जीत)।  
गिओगि वि [नियोगिन] नियोग-विशिष्ट,  
नियुक्त, आज्ञाप्राप्त, अधिकारी (सुपा ३७१)।  
गिओजिय देखो गिओइअ (आवम)।  
गिंत } देखो णी = गम्।  
गितूण }  
गिंद सक [निन्द] निन्दा करना, बुराई करना,  
जुगुप्सा करना। गिंदामि (पडि)। वृह. गिंदंत  
(आ ३६)। कवक. गिदिजंत (सुपा ३६३)।  
संछ. गिदिता, गिदिअ (आचा २, ३, १;  
१; आ ४०)। हेह. गिदिं, गिदिताए  
(महा; ठ २, १)। छ. गिदिच्य, गिद-  
गिज (परह २, १; उप १०३१ टी; साया  
१, ३)।  
गिंद वि [निन्द्य] निन्दा-योग्य, निन्दनीय  
(आचू १)।  
गिंद (अप) व्री [निद्रा] नींद, निद्रा (भवि)।  
गिंद्या न [निन्दन] निन्दा, घृणा; जुगुप्सा  
(उप ४४६; ७२८ टी)।  
गिंद्याया देखो गिंद्या (उत्त २६, १)।  
गिंद्या व्री [निन्द्या] निन्दा; जुगुप्सा  
(श्रौष; श्रौष ७६१; परह २, १)।  
गिंद्य वि [निन्दक] निन्दा करनेवाला (पउम  
६०, २१)।  
गिंदा व्री [निन्दा] घृणा, जुगुप्सा (आव ४)।  
गिदिअ वि [निन्दत] जिसकी निन्दा की  
गई हो वह, बुरा (गा २६७; प्रातू १५८)।  
गिदिणी व्री [दि] कुत्सित वृष्टों का उन्मूलन  
(दे ४, ३५)।  
गिदि व्री [निन्दु] मृत-वत्सा व्री, जिसके  
बच्चे जीवित न रहते हैं ऐसी व्री (अंत ७;  
आ १६)।  
गिदि पुं [निन्द] नीम का फेड़ (हे १, २३०;  
प्रातू २६)।  
गिदोलिया व्री [निन्दगुलिका] नीम का  
फल (साया १, १६)।

गिकर पुं [निकर] समूह, जत्या, राशि, डेर,  
(कंपू)।  
गिकरण न [निकरण] १ निश्चय, निर्णय।  
२ निकार, दुःख-उत्पादन (आचा)।  
गिहरिय वि [निकरित] सारीकृत, सर्वथा  
संशोधित (श्रौष)।  
गिकस देखो गिहस (अणु २१२)।  
गिकाइय वि [निकाचित] १ व्यवस्थापित,  
नियमित (संदि)। २ अत्यन्त निविड़ रूप से  
हुआ (कर्म) (उव; सुपा ५७६)। न. कर्मों  
का निविड़ हा से कवन (ठा ४, २)।  
गिकाम सक [नि + कामय] अनिलाप  
करना। गिकामएवा (सूत्र १, १०, ११)।  
वृह. गिहामयंत (सूत्र १, १०, ११)।  
गिकाम न [निकाम] हमेशा परिमाण से  
ज्यादा खाया जाता भोजन (पिड ६४५)।  
गिकाम न [निकाम] १ निश्चय, निर्णय।  
२ अत्यन्त, अतिशय (सूत्र १, १०)।  
गिकाममीण वि [निकाममीण] अत्यन्त  
प्राथी (सूत्र १, १०, ८)।  
गिकाय सक [नि + काचय] १ नियमन  
करना, नियन्त्रण करना। २ निविड़ रूपसे  
बांधना। ३ निमन्त्रण देना। गिकाइति  
(भग)। भूका. गिकाइतु (भग; सूत्र २, १)।  
भवि. गिकाइत्संति (भग)। संछ. गिकाय  
(आचा)।  
गिकाय पुं [निकाय] १ समूह, जत्या, वृक्ष,  
वर्ग; राशि (श्रौष ४०७; वित्ते ६००; दं  
२८)। २ मोक्ष, मुक्ति (आचा)। ३  
आवश्यक, अवश्य करने योग्य अनुष्ठान-विशेष  
(अणु)। °काय पुं [°काय] जीव-राशि,  
द्युओं प्रकार के जीवों का समूह (दस ४)।  
गिकाय पुं [निकाच] निमन्त्रण, न्यौता  
(सम २१)।  
गिकाय देखो गिकाइय, जेण खमासहिएणं  
कएणा कम्माणवि निकायाणं (सिदि १२६२)।  
गिकायण न [निकाचन] निमन्त्रण (पिड  
४७५)।  
गिकायणा व्री [निकाचना] १ कारण-  
विशेष, जिससे कर्मों का निविड़ कन्व होता  
है (वित्ते २५१५ टी; भग)। २ निविड़  
कवन। ३ दापन, दिलाना (राज)।

णिक्रित सक [ नि + कृत् ] काटना, छेदना ।  
 णिक्रितइ (पुष्प ३३७; उव) । णिक्रितए,  
 (उव; काल) ।  
 णिक्रितय वि [ निकर्तक ] काट डालनेवाला  
 (काल) ।  
 णिक्रुट्ट सक [ नि + कृट्ट ] १ कूटना । २  
 काटना । णिक्रुट्टइ, णिक्रुट्टेमि (उवा) ।  
 णिक्रुणिय वि [ निकृणित ] टेढ़ा किया हुआ,  
 बक्र किया हुआ (दे १; ८८) ।  
 णिक्रैय पुं [ निकेत ] गृह, आश्रय, निवास-  
 स्थान (णाय्या १; १६, उत्त २; आचा) ।  
 णिक्रैयण न [ निकेतन ] ऊपर देखो (सुर  
 १३, २१; महा) ।  
 णिक्रौय पुं [ निकोच ] संकोच, सिमट (दे ७,  
 १५) ।  
 णिक्र वि [ दे ] सुनिर्मल, सर्वथा मल-रहित  
 (णाय्या १, १) ।  
 णिक्रक देखो णिक्रल = निष्क (प्राक् २१) ।  
 णिक्रइअव वि [ निष्कैतव ] १ कपट-रहित,  
 निर्माय (कुमा) । २ कपट का अभाव,  
 निष्कपटपन (गा ८५) ।  
 णिक्रकड वि [ निष्ककडट ] १ आवरण-रहित  
 (श्रौप) । २ उपघात-रहित (सम १३७) ।  
 णिक्रखि वि [ निष्काडिक्षन् ] अभिलाषा-  
 रहित (उत्त १६, ३४) ।  
 णिक्रखिय न [ निष्काडिक्षत ] १ आकांक्षा  
 का अभाव । २ दर्शान्तर की अनिच्छा (उत्त  
 २; पडि) ।  
 णिक्रखिय वि [ निष्काडिक्षत, °क ] १  
 आकांक्षा-रहित । २ दर्शान्तर के पक्षपात से  
 रहित (सुत्र २, ७; श्रौप, राय) ।  
 णिक्रचण वि [ निष्काञ्चन ] सुवर्ण-रहित,  
 धन-रहित; निःस्व, निर्धन (सुपा १६८) ।  
 णिक्रटय वि [ निष्कण्टक ] कण्टक-रहित,  
 वाधारहित, शत्रु-रहित (सुपा २०८) ।  
 णिक्रड वि [ निष्काण्ड ] १ काण्ड-रहित,  
 स्कन्ध-वर्जित, २ अत्रसर-रहित (गा ४६८) ।  
 णिक्रंत वि [ निष्क्रान्त ] १ निर्गत, बाहर  
 निकला हुआ (ते १, ५६) । २ जिसने दीक्षा  
 ली हो वह, गृहस्थाथम से निर्गत (आचा) ।  
 णिक्रंतार वि [ निष्क्रान्तार ] अरण्य से निर्गत,  
 (ठा ३, १) ।

णिक्रंति स्त्री [ निष्क्रान्ति ] निष्क्रमण, बाहर  
 निकलना (प्राक् २१) ।  
 णिक्रंतु वि [ निष्क्रमित् ] बाहर निकलने-  
 वाला (ठा ३, १) ।  
 णिक्रंत्त सक [ नि + कन्ट् ] उन्मूलन करना ।  
 निष्कंदइ (सम्मत् १७४) ।  
 णिक्रंप वि [ निष्कम्प ] कम्प-रहित, स्थिर  
 (हे २, ४; अग्नि २०१) ।  
 णिक्रञ्ज वि [ दे ] अनवस्थित, चंचल (दे ४,  
 ३३; पात्र) ।  
 णिक्रट्ट वि [ निष्कट्ट ] कृश, दुर्बल, क्षीण  
 (ठा ४, ४—पत्र २७१) ।  
 णिक्रड वि [ दे ] १ कठिन (दे ४, २६) ।  
 २ पुं. निश्चय, निर्णय (पड्) ।  
 णिक्रडिट्ठय वि [ निष्कट्ट, निष्कपित ] बाहर  
 खींचा हुआ, बाहर निकाला हुआ (स ६०;  
 २१५) ।  
 णिक्रण वि [ निष्कण ] धान्य-कण-रहित,  
 अत्यन्त गरीब (विपा १, ३) ।  
 णिक्रम अक [ निर + क्रम् ] १ बाहर  
 निकलना । २ दीक्षा लेना, संन्यास लेना ।  
 णिक्रमामि (पि ४८१) । बह्. णिक्रमंत  
 (हेका ३३२; मुद्रा ८२) ।  
 णिक्रम पुं [ निष्क्रम ] नीचे देखो (नाट—  
 मुद्रा २२४) ।  
 णिक्रमण न [ निष्क्रमण ] १ निर्गमन, बाहर  
 निकलना (मुद्रा २२४) । २ दीक्षा, संन्यास  
 (आचा) ।  
 णिक्रम्म वि [ निष्कर्मन् ] कर्म-रहित, मुक्ति-  
 प्राप्त, मुक्त (द्रव्य-१४) ।  
 णिक्रम्म वि [ निष्कर्मन् ] १ कार्य-रहित,  
 निकम्मा (गा १६६) । २ मोक्ष, मुक्ति । ३  
 संवर; कर्मों का निरोध, (आचा) ।  
 णिक्रय पुं [ निष्क्रय ] १ बदला, उन्मूलन  
 (सुपा ३४१; पलम ७; १२६) । २ मृति,  
 वेतन, मजूरी (हे २, ४) ।  
 णिक्ररण न [ निकरण ] १ तिरस्कार । २  
 परिभवं । ३ विनाश (संबोध १६) ।  
 णिक्ररुण वि [ निष्करुण ] करुणा-रहित,  
 दया वर्जित (नाट—मालती ३२) ।  
 णिक्रल वि [ निष्कल ] कला-रहित (सुपा १) ।

णिक्रल वि [ दे ] पोलापन से रहित (सुपा १,  
 भग १५) ।  
 णिक्रलंक वि [ निष्कलङ्क ] कलंक-रहित,  
 वेदाग (स ४१८; महा; सुपा २५३) ।  
 णिक्रलुण देखो णिक्ररुण (पएह १, १) ।  
 णिक्रलुस वि [ निष्कलुप ] १ निर्दोष, निर्मल ।  
 २ निरुपद्रव, उपद्रव-रहित (से १२, ३४) ।  
 णिक्रवड वि [ निष्कपट ] कपट-रहित (उप-  
 पृ १६०) ।  
 णिक्रवय वि [ निष्कवच ] कवच-रहित, वर्म-  
 वर्जित (ठा ४, २) ।  
 णिक्रस अक [ निर + कस् ] बाहर निक-  
 लना । णिक्रसे (सुत्र १, १४, ४) ।  
 णिक्रस सक [ निर + कस् ] निकासना,  
 बाहर निकालना । कर्म णिक्रसिज्जइ  
 (उत्त १) ।  
 णिक्रसण न [ निष्कसन ] निर्गमन (राज) ।  
 णिक्रसाय वि [ निष्कपाय ] १ कपाय-रहित,  
 क्रोधादि वर्जित (आउ) । २ पुं. भरत-क्षेत्र के  
 एक भावी तीर्थकर-देव (सम १५३) ।  
 णिक्रा स्त्री [ नीका ] वाम-नासिका (कुमा) ।  
 णिक्राम वि [ निष्काम ] अभिलाषा-रहित  
 णिक्रारण वि [ निष्कारण ] १ कारण-रहित,  
 अहेतुक (सुर २, ३६) । २ क्रिदि, विना  
 कारण (आव ६) ।  
 णिक्रारण वि [ निष्कारण ] निरुपद्रव, 'नेस  
 निष्कारणो वहो' (पिड ५१६) ।  
 णिक्रारणिय वि [ निष्कारणिक ] कारण-  
 रहित, हेतु-शून्य (श्रौव ५) ।  
 णिक्रारिम वि [ निष्कारण ] विना कारण  
 (आख्यानक० २३ अधिकार, भावादेयाक्या,  
 पथ ५२५) ।  
 णिक्राल सक [ निर + कासय ] बाहर  
 निकालना । संक्र. निष्कालेडं (सुपा १३) ।  
 णिक्रालिअ देखो णिक्रालियि (ती १५) ।  
 णिक्रास पुं [ निष्कास ] नीकास, बाहर निका-  
 लना (धर्मवि १४६) ।  
 णिक्रासिय वि [ निष्कासित ] बाहर निकाला  
 हुआ (राज) ।  
 णिक्रिचण वि [ निष्किञ्चन ] निर्धन, वर-  
 रहित, निःस्व, गरीब (भावम) ।

गिक्किट्ट वि [निकट] अघम, नीच, हीन, जघन्यः 'अइनिक्किट्टुपाविट्टुयावि अहा' (था १४; २७; सुपा ५७१; सट्टि १५८) ।  
 गिक्किण सक [निर् + क्री] निष्कय करना, खरीदना । गिक्किणसि (मूच्छ ६१) ।  
 गिक्कित्तिम वि [निष्कृत्रिम] अकृत्रिम, असली, स्वामाविक (उम ६८६ टी) ।  
 गिक्किय वि [निष्किय] क्रिया-रहित, अक्रिय (पएह १, २) ।  
 गिक्किय वि [निष्कृप] कृपा-रहित, निर्दय (पात्र; गा ३०; सुपा ४०६) ।  
 गिक्कीलिय वि [निष्क्रीडित] गमन, गति (पव २०१) ।  
 गिक्कूड पुं [निष्कूट] तापन, तपाना (राज) ।  
 गिक्कूडल वी [दे] जीता हुआ, विनिर्जित (दे १, ४) ।  
 गिक्कोडण न [निष्कोटन] कवन-विशेष (पएह १, ३—पत्र ५३) ।  
 गिक्कोर सक [निर् + कोरय्] १ दूर करना । २ पात्र वगैरह के मुँह का बन्द करना । ३ पात्र आदि का तक्षण करना । गिक्कोरिइ (वृह १) ।  
 गिक्कोरण न [निष्कोरण] १ पात्र आदि के मुँह का बन्द करना । २ पात्र आदि का तक्षण (वृह १) ।  
 गिक्ख पुं [दे] १ चोर । २ सुवर्ण, काञ्चन (दे २, ४७) ।  
 गिक्ख पुंन [निष्क] दीनार, मोहर, मुद्रा, अशर्फी, रुपया (हे २, ४) ।  
 गिक्खंत देवो गिक्कंत (सूत्र १, ८; सम १५१; कस) ।  
 गिक्खंय वि [निःस्कन्ध] स्कन्ध-रहित, डाली-रहित (गा ४६८ अ) ।  
 गिक्खण न [निखनन] गाड़ना (कुप्र १६१) ।  
 गिक्खत्त वि [निःक्षत्र] क्षत्र-रहित, क्षत्रिय-रहित (पि ३१६) ।  
 गिक्खम अक [निर् + क्रम्] १ बाहर निकलना । २ दीक्षा लेना, संन्यास लेना । गिक्खमइ (भग) । गिक्खमति (कप्प) । गिक्खमिसु (कप्प) । भवि. गिक्ख-

मिस्संति (कप्प) । वकू. गिक्खममाण (याया १, ५; पउम २२, १७) । संकू. गिक्खम्म (कप्प) । हेकू. गिक्खमित्तए (कप्प; कस) ।  
 गिक्खम पुंन [निष्क्रम] १ निर्गमन । २ दीक्षा-ग्रहण (ठा १०; दस १०) ।  
 गिक्खमण न [निष्क्रमण] ऊपर देखो (सुज १३; याया १, १६; पउम २३, ४) ।  
 गिक्खय वि [निखात] गाड़ा हुआ (कुप्र २५) ।  
 गिक्खय वि [दे. निक्षत] निहृत, मारा हुआ (दे ४, ३२; पात्र) ।  
 गिक्खविअ वि [निक्षपित] नष्ट किया हुआ, विनाशित (अच्यु ३१) ।  
 गिक्खसरिअ वि [दे] मुपित, जो लूट लिया गया हो, अपहृत-सार (दे ४, ४१) ।  
 गिक्खाविअ वि [दे] शान्त, उपशम-प्राप्त (पड) ।  
 गिक्खित्त वि [निक्षित्त] १ न्यस्त, स्थापित (पात्र; पएह १, ३) । २ मुक्त, परित्यक्त (याया १, १; वव २) । ३ पाक-नाजन में स्थित (पएह २, १) । °चर वि [°चर] पाक-नाजन में स्थित वस्तु को भिक्षा के लिए खोजनेवाला (पएह २, १; औप) ।  
 गिक्किप्पमाण नीचे देखो ।  
 गिक्किव सक [नि + क्षिप्] १ स्थापन करना, स्वस्थान में रखना । २ परित्याग करना । गिक्किवइ (महा) । गिक्खिअंत (निचू १६) । कवकू. गिक्खिअण (आत्ता) । संकू. गिक्खिअत्ता, गिक्खिअविअ, गिक्खिअट्टं (कस; पि ३१६; नाट—विक्र १०३; वव १) । कू. गिक्खिअविय, गिक्खिअत्तव (पएह १, १; विस ६१७) ।  
 गिक्खिय सक [नि + क्षिप्] नाम आदि भेदों से वस्तु का निलक्षण करना । निक्खिअ (अणु १०) । भवि. निक्खिअत्तामि (अणु १०) ।  
 गिक्खिय पुं [निक्षेप] १ स्थापन । २ न्यास-स्थापन, घोरोहर, वन आदि जमा रखना (था १४) ।  
 गिक्खियण न [निक्षेपण] १ स्थापन । २ डालना (सुपा ६२६; पडि) ।

गिक्खुड वि [दे] अकम्प, स्थिर (दे ४, २८) ।  
 गिक्खुड पुंन [निष्कुट] १ कोटर, छांखला-विवर (तंदु २६) । २ पृथिवी-खण्ड (विस १५३८; पंच २, ३२) । ३ गृहाराम, उपवन, घर के पास का जमीना (राय २५) ।  
 गिक्खुड पुं [निष्कुट] भूमि-खण्ड (विस १५३८) ।  
 गिक्खुत्त न [दे] निरिचत, नक्की, चोफक, अवयक 'पत्ते विण्णालकाले नत्सइ बुद्धी नराण निक्खुत्तं' (पउम ५३, १३८); 'वत्ता दाहामि निक्खुत्तं' (पउम १०, ५५) ।  
 गिक्खुरिअ वि [दे] अट्टइ, अस्थिर (दे ४, ४०) ।  
 गिक्खेड पुं [निष्खेट] अघमता, नीचता, दुष्टता (सुपा २७६) ।  
 गिक्खेत्तव देवो गिक्खिय = नि + क्षिप् । गिक्खेव पुं [निक्षेप] १ न्यासः स्थापन (अणु) । २ परित्याग, मोचन (आत्ता २, १, १, १) । ३ घोरोहर, वन आदि जमा रखना (पउम ६२, ६) ।  
 गिक्खेवण न [निक्षेपण] १ निक्षेप, स्थापन (पव ६) । २ व्यपस्थापन, नियमन (विस ६१२) ।  
 गिक्खेवणया } वी [निक्षेपणा] स्थापना,  
 गिक्खेवणा } विन्यास (उवा; कप्प) ।  
 गिक्खेवय पुं [निक्षेपक] निगमन, उपसंहार (वृह १) ।  
 गिक्खेविय वि [निक्षिप्त] १ न्यस्त, स्थापित । २ मुक्त, परित्यक्त (अणु) ।  
 गिक्खेविय वि [निक्षेपित] ऊपर देखो (भवि) ।  
 गिक्खोभ } पुं [निःक्षोभ] क्षोभ-रहित,  
 गिक्खोह } निष्कम्प (सम १०६; चउ ४७) ।  
 गिक्खय देवो गिक्खय (कुप्र २२३) ।  
 गिक्खय न [निखय] संन्यास-विशेष, सौ खर्क, सौ अरब (राज) ।  
 गिक्खिल वि [निखिल] सर्व, सकल, सब (अणु; नाट—महावीर ६७) ।  
 गिगंठ देवो गिअंठ (विस १३३२) ।  
 गिगड सक [निगडय] नियन्त्रित करना, बांधना । संकू. निगडिऊण (कुप्र १८७) ।

णिगडिय वि [निगडित] नियन्त्रित (हम्मोर ३०) ।

णिगड पुं [दे] धर्म, धाम, गरमी (दि ४, २७) ।

णिगण वि [नग्न] नंगा, वज्र-रहित (सूत्र १, २, १, ६) ।

णिगद् सक [नि + गद्] १ कहना । २ पढ़ना, अभ्यास करना । वक्र. णिगदमाण (विसे ८५०) ।

णिगम पुं [निगम] १ प्रकृत बोध (विसे १२८७) । २ व्यापार-प्रधान स्थान, जहाँ व्यापारी, विशेष संख्या में रहते हैं ऐसा शहर आदि (परह १, ३; औप; आचा) । ३ व्यापारि-समूह (सम ५१) ।

णिगमण न [निगमन] अनुमान प्रमाण का एक अवयव, उपसंहार (दसनि १) ।

णिगमिअ वि [दे] निवातित (पङ्) ।

णिगर पुं [निकर] समूह, राशि, जट्या (विपा १, ६; उवा) ।

णिरण न [निकरण] कारण, हेतु (भग ७, ७) ।

णिरिय वि [निकरित] सर्वथा शोचित (परह १, ४) ।

णिल देखो णिअल । २ वेड़ी के आकार का सौवर्ण आभूषण-विशेष (औप) ।

णिलिय देखो णिरिय (जं २) ।

णिसास देखो णिसास = निसास (पिंड ६४५) ।

णिसास न [निसास] अत्यन्त, अतिशय (ठा ५, २; आ १६) ।

णिसास पुं [निसास] परस्पर संयोजन, मिलाना, जोड़ (भग २५, ७) ।

णिसिद्धि देखो णिसिद्धि ।

णिसिद्धि देखो णिसिद्धि (सुपा १८३) ।

णिसिण वि [नग्न] नग्न, नंगा (आचा २, २, ३; ७, १; पि १३३) ।

णिसिणण न [नग्न] नंगापत्त, नग्नता (उत्त ५, २१; सुख ५, २१) ।

णिसिण्ह सक [नि + गद्] १ निग्रह करना, दण्ड करना, शिक्षा करना । २ रोकना । ३ अक. बैठना, स्थिति करना ।

संक्र. णिसिद्धि, णिसिद्धि (ठा ७; कप्प; राज) । क. णिसिद्धियच्च (उप पृ २३) ।

णिसिद्धि अक [नि + गुञ्] १ सुजना, अव्यक्त शब्द करना । २ नीचे नमना । वक्र. णिसिद्धिमाण (साया १, ६—पत्र १५७) ।

णिसिद्धि देखो णिसिद्धि = निकुञ्ज (आवम) ।

णिसिद्धि वि [निगुण] गुण-रहित (परह १, २) ।

णिसिद्धि देखो णिसिद्धि (परह १, ४) ।

णिसिद्धि वि [निगुह] १ गुप्त, प्रच्छन्न (कप्प) । २ मौनी, मौन रहनेवाला (राज) ।

णिसिद्धि सक [नि + गुह] छिपाना, गोपन करना । णिसिद्धि (उवा; महा) । णिसिद्धि (सिद्धि ३२) । संक्र. णिसिद्धि (स ३३५) ।

णिसिद्धि न [निगुहन] गोपन, छिपाना (पंचा १५) ।

णिसिद्धिअ वि [निगुहित] छिपाया हुआ, गोपित (सुपा ५१८) ।

णिसिद्धिअ पुं [निगोद] अन्त जीवों का एक साधारण शरीर-विशेष (भग; परण १) ।

जीव पुं [जीव] निगोद का जीव (भग २५, ६; कम्म ४, ८५) ।

णिसिद्धि देखो णिसिद्धि = निर + गम । वक्र. णिसिद्धि (भवि) ।

णिसिद्धिअ वि [निगुहित] गुम्फित, ग्रथित (पि ५१२) ।

णिसिद्धिअ } देखो णिसिद्धि = निर + गम ।  
णिसिद्धिअतूण }

णिसिद्धिअ देखो णिसिद्धिअ (औप; श्लोक ३२८; प्रासू १३६, ठा ५, ३) ।

णिसिद्धिअ वि [नैरन्थ] निरन्थ-सम्बन्धी (साया १, १३; उवा) ।

णिसिद्धिअ ली [नैरन्थी] जैन साध्वी (साया १, १, १४; उवा; कप्प; औप) ।

णिसिद्धिअ अक [निर + गम] बाहर णिसिद्धिअ } निकलना । णिसिद्धिअ (उवा; कप्प) । वक्र. णिसिद्धिअ, णिसिद्धिअमाण, णिसिद्धिअमाण (सुपा ३३०; साया १, १; सुपा ३५६) । संक्र. णिसिद्धिअ, णिसिद्धिअतूण (कप्प; स १७) । हेह. णिसिद्धिअ (उप ७२८ टी) ।

णिसिद्धिअ पुं [निगम] १ उत्पत्ति, जन्म (विसे १५३६) । २ बाहर निकलना (से ६, ३६; उवा पृ ३३२) । ३ द्वार, दरवाजा (से २, २) । ४ बाहर जाने का रास्ता (से ८, ३३) । ५ प्रस्थान, प्रयाण (वृह १) ।

उप पृ ३३२) । ३ द्वार, दरवाजा (से २, २) । ४ बाहर जाने का रास्ता (से ८, ३३) । ५ प्रस्थान, प्रयाण (वृह १) ।

णिसिद्धिअ न [निगमन] १ निःसरण, बाहर निकलना (साया १, २; सुपा ३३२; भग) । २ पलायन, भाग जाना । ३ अपक्रमण (वव १) ।

णिसिद्धिअ वि [निगमित] बाहर निकाला हुआ, निस्तारित (था १६) ।

णिसिद्धिअ वि [निगमित] गमाया हुआ, पसार किया हुआ (सम्मत्त १२३) ।

णिसिद्धिअ वि [निगित] निःसृत, बाहर निकला हुआ (विसे १५४०; उवा) । जस वि [यशस्] जिसका यश बाहर में फैला हो (साया १, १८) । मोअ वि [मोद] जिसकी सुगन्ध खूब फैली हो (पात्र) ।

णिसिद्धिअ वि [निगित] हाथी-रहित (भवि) ।

णिसिद्धिअ देखो णिसिद्धिअ । क. णिसिद्धिअ (सुपा ५८०) ।

णिसिद्धिअ पुं [निग्रह] १ दण्ड, शिक्षा (प्रासू १७०; आव ६) । २ निरोध, अवरोध, रूकावट (भग ७, ६) । ३ वश करना, काबू में रखना, नियमन (प्रासू ४८) । दण्डण न [स्थान] न्याय-शास्त्र-प्रसिद्धि प्रतिज्ञा-हानि आदि पराजय-स्थान (ठा १; सूत्र १, १२) ।

णिसिद्धिअ न [निग्रहण] १ निग्रह, शिक्षा, दण्ड (सुर १६, ७) । २ दमन, नियमन, नियन्त्रण (प्रासू १३२) ।

णिसिद्धिअ वि [निगृहीत] १ जिसका निग्रह किया गया हो वह (सं ११५) । २ पराजित पराभूत (आवम) ।

णिसिद्धिअ देखो णिसिद्धिअ (सुख १, १) ।

णिसिद्धिअ ली [दे] हृदि, हृत्दी (दे ४, २५) ।

णिसिद्धिअ पुं [निगाल] निचोड़, रस, 'सीस-घड़ीनिगाल' (सं ४१) ।

णिसिद्धिअ वि [निगालित] गलाया हुआ (उप पृ ८४) ।

णिसिद्धिअ वि [निगालित] निग्रह करनेवाला (उत्त २५, २) ।

णिसिद्धिअ वि [दे. निर्गण] १ निर्गंत, बाहर निकला हुआ (दे ४, ३६; पात्र) । २ वान्त, वमन किया हुआ (से ५, २६) ।

गणिगणह देखो गणिगणह । गणिगणहामि  
(विसे २४८२) ।

गणिगलिय वि [निर्गलित] वान्त, वमन  
किया हुआ (स ३५८) ।

गिगुण्डो वी [निर्गुण्डो] औपवि-विशेष,  
वनस्पति संभार (परण १) ।

गिगुण वि [निर्गुण] गुण-रहित, गुण-हीन  
(गा २०३; उव; परह १, २; उप ७२८टी) ।

गिगुण्ण न [निर्गुण्य] गुण-रहितपन,  
गिगुण्ण गुण-हीनता, निगुण्ण ( वसु;  
भत् १४) ।

गिगुण्ण वि [निर्गुण्ण] स्थिर रूप से स्थापित  
(सूत्र २, ७) ।

गिगुण्णोह पुं [न्यग्राह] वृक्ष-विशेष, वरगद,  
धड़ का पड़ (परम २०, ३६; पड़) । परिमंडल  
न [परिमण्डल] शरीर-संस्थान-विशेष,  
वटाकार शरीर का आकार (सम १४६;  
वा ६) ।

गिग्वंट } देखो गिग्वंटु (कप) ।  
गिग्वंटु }

गिग्वट्ट वि [दे] कुशल, निपुण, चतुर (दे  
४, ३४) ।

गिग्वघण देखो गिग्वघण (विक्र १०२) ।

गिग्वत्तअ वि [दे] क्षिप्त, फँका हुआ  
(पात्र) ।

गिग्वाइय वि [निर्वाहित] १ आघात-प्राप्त,  
आहत । २ व्यापादित, विनाशित (एगाया १,  
१३) ।

गिग्वाय पुं [निर्वात] राजत-वंश का एक  
राजा (परम ६, २२४) ।

गिग्वाय पुं [निर्वात] १ आघात, 'रंगिर-  
तुंगनु-रंगमसुर-गनिग्वायविहरियं धरणिं' (सुपा  
३) । २ विजली का गिरना (स ३७५; जीव  
१) । ३ व्यन्तर-कृत गजना (वा १०) । ४  
विनाश (सूत्र १, १५) ।

गिग्वायण न [निर्वातन] नाश, विनाश,  
उच्छेदन (पडि; सुपा ५०३) ।

गिग्विण वि [निर्वाण] निर्दय, कल्याण-रहित  
(गा ४५२; परह १, १; सुर २, ६१) ।

गिग्वेडं देखो गिगिणह ।

गिग्वोर वि [दे] निर्दय, दया-हीन (दे ४,  
३७) ।

गिग्वोस पुं [निर्वाप] महान् अत्यक्त शब्द  
(परह १; सम १५३) ।

गिग्वंटु पुं [निघण्टु] शब्द-कोश, नाम संग्रह  
(श्रीप; भग) ।

गिग्वस पुं [निकय] १ कसौटी का पत्थर  
(अणु) । २ कसौटी पर की जाती सुवर्ण  
की रेखा (सुपा ३६१) ।

गिग्वय पुं [निचय] संग्रह, संचय (सूत्र १,  
१०, ६) ।

गिग्वय पुं [निचय] १ समूह, राशि । २  
उपचय, पुष्टि (श्रीव ४०७; स ३६६; आचा;  
महा) ।

गिग्विअ वि [निचित] १ व्याप्त, भरपूर  
(अजि ५) । २ निविड़, पुष्ट (भग) ।

गिग्वुल पुं [निचुल] वृक्ष-विशेष, बंजुल वृक्ष  
(स १११; कुमा) ।

गिग्वि वि [नित्य] १ अविनश्यत्, शश्वत्  
(आचा; श्रीप) । २ न. निरन्तर, सर्वदा,  
हमेशा (महा; प्रासू १४; १०१) । च्छणिय  
वि [क्षणिक] निरन्तर उत्सववाला (एगाया  
१, ४) । मंडिया वी [मण्डिता] जम्बू  
वृक्ष-विशेष (इक) । वाय पुं [वाद]  
पदार्थों को नित्य माननेवाला मत; 'मुहदुक्ल-  
संपथोगो न जुज्जइ निच्चवायपक्कम्मिं' (सम  
१८) । सो अ [शस्] सदा, सर्वदा,  
निरन्तर (महा) । लोअ, लोअ, लोअ  
पुं [लोक] १ एक विद्यावर-राजा (परम  
२, ५२) । २ ग्राहविष्टायक देव-विशेष (वा  
२, ३) । ३ न. नगर-विशेष (परम २, ५२;  
इक) । ४ वि. सर्वदा प्रकाशवाला (कप) ।

गिग्वि देखो गीय = नीच (सम ५५) ।

गिग्विखु वि [निश्चलस] चक्र-रहित,  
नेत्र-हीन, अन्धा (परम ८२, ५१) ।

गिग्विट्ट (अप) वि [गाड] गाड़, निविड (हे  
४, ४२२) ।

गिग्विय देखो गिग्विय (प्रयो २१; पि ३०१) ।

गिग्विर देखो गिग्विर । गिग्विर (हे ४,  
३ टि) ।

गिग्विल सक [क्षर] करना, टपकना, चूना ।  
गिग्विल (हे ४, १७३) । प्रयो. गिग्विलावेड  
(कुमा) ।

गिग्विल सक [मुच्] दुःख को छोड़ना,  
दुःख का त्याग करना । गिग्विल (हे ४,  
६२ टि) । नूका. गिग्विलीय (कुमा) ।

गिग्विल वि [निश्चल] स्थिर, दृढ़, अचल  
(हे २, २१; ७७) । पय न [पद] मुक्ति,  
मोक्ष (पंचव ४) ।

गिग्वित वि [निश्चिन्त] चिन्ता-रहित,  
वैफिर (विक्र ४३; प्रासू २७; सुपा २२५) ।

गिग्विट्ट वि [निश्चेष्ट] चेष्टा-रहित (सुपा  
१४) ।

गिग्विद (शौ) देखो गिग्विदय (पि ३०१) ।

गिग्विज्जोअ पुं [नित्योद्द्योत] नन्दोरवर  
द्वीप के मध्य की दक्षिण दिशा में स्थित एक  
अंजनगिर (पव. २६६) ।

गिग्विज्जोअ वि [नित्योद्द्योत] १ सदा  
गिग्विज्जीव प्रकाशयुक्त । २ पुं. ग्रह-विशेष  
ज्योतिष्क देव-विशेष (वा २, ३) । ३ न.  
एक विद्यावर-नगर (इक) ।

गिग्विडु वि [दे] १ उद्वृत्त, बाहर निकला  
हुआ (पड़) । २ निर्दय, दया-हीन (पात्र) ।

गिग्विद्विग्ग वि [नित्योद्विग्ग] सदा खिन्न  
(वस ५, २) ।

गिग्विद्वे देखो गिग्विद्वे (एगाया १, २; सुर  
३, १७२) ।

गिग्विचैयण वि [निश्चेतन] चेतना-रहित  
(महा) ।

गिग्विचोउया वी [नित्यर्तुका] हमेशा रजस्वला  
रहनेवाली वी (वा ५, २) ।

गिग्विचोय सक [दे] निचोड़ना । निचोयइ  
(कुप्र २१५) ।

गिग्विचोरिक न [निश्चौर्य] १ चोरी का  
भ्रात्र । २ वि. चोरी-रहित (उप १३६ टी) ।

गिग्विचैय वि [निश्चैयिक] १ निश्चय-  
सम्बन्धी । २ पुं. निश्चय नय, द्रव्याधिक नय,  
परिणाम-वाद (विसे) ।

गिग्विचैय वि [निश्चैयिक] १ कपट-रहित,  
माया-वर्जित (गण ८; सुपा ३५०) । २  
क्रि. विना कपट (सार्ध ५१) ।

गिग्विचैय वि [दे] १ निर्लेप, वैशरम, घुष्ट,  
ठीठ (वृह १; वव ५) । २ अवसर को नहीं  
जाननेवाला, असमयज्ञ (राज) ।

णिच्छम् देखो णिच्छउम (उव; सावं १४५)।  
णिच्छय सक [निर् + चि] निश्चय करना,  
निरणय करना। वक्र. णिच्छयमाण (उप  
७२८ टी)।

णिच्छय पुं [निश्चय] १. निश्चय, निरणय  
(भग; प्राप्त १७७)। २. नियम, अविनाभाव  
(राज)। ३. नय-विशेष, द्रव्याधिक नय,  
वास्तविक पदार्थ को ही माननेवाला मत,  
परिणाम-वाद (बृह ४; पंचा १३)। 'कहा  
वो [कथा] अपवाद (निचू ५)।

णिच्छल्ल सक [छिद्र] छेदना, काटना।  
णिच्छल्लइ (हि ४, १२४)।

णिच्छल्लिअ वि [छिन्न] काटा हुआ (कुमा;  
स २५८; गउड)।

णिच्छाय वि [निश्चय] कान्ति-रहित,  
शोभा-हीन (पएह १, २)।

णिच्छारय वि [निस्सारक] सार-रहित,  
'निच्छारयधारयवृलीण' (श्रा २७)।

णिच्छिद्रु वि [निश्चिद्र] छिद्र-रहित (शाया  
१, ६; उप २११ टी)।

णिच्छिण्ण वि [निच्छिन्न] घृयक-कृत, अलग  
किया हुआ, काटा हुआ (विसे २७३)।

णिच्छिइ देखो णिच्छिद्रु (स ३५०)।

णिच्छिन्न देखो णिच्छिण्ण (पुष्क ४६३;  
महा)।

णिच्छिय वि [निश्चित] निश्चित, निर्णीत,  
असंदिग्ध (शाया १, १; महा)।

णिच्छीर वि [निःक्षीर] क्षीर-रहित, दुग्ध-  
वर्जित (पएण १)।

णिच्छुंड वि [दे] निर्दय, कर्ण-रहित (दे  
४, ३२)।

णिच्छुट्ट वि [निश्छुटित] निमुक्त, छूटा  
हुआ (सुर ६, ७२)।

णिच्छुभ सक [नि + क्षिप्] १. वाहर  
निकालना। फेंकना। णिच्छुभइ (भग)।  
कर्म. णिच्छुभइ (पि ६६)। कवक. णिच्छु-  
भमाण (विपा १, २)। संक. णिच्छुभित्ता,  
णिच्छुभिउं (भग; निर १, १)। प्रयो.  
णिच्छुभावेइ (शाया १, ८)।

णिच्छुभ पुं [निक्षेप] निष्कासन (पिंड  
३७५)।

णिच्छुभण न [निक्षेपण] निःसारण,  
निष्कासन (निचू १)।

णिच्छुभाविय वि [निक्षेपित] निस्सारित,  
बाहर निकाला हुआ (शाया १, ८)।

णिच्छुह सक [नि + क्षिप्] डालना।  
णिच्छुहइ (सुख ७, ११)।

णिच्छुहणा वी [निक्षेपणा] बाहर निकलने  
की शक्ती, निर्भर्त्सना (शाया १, १६ टी—  
पत्र २००)।

णिच्छुह वि [निक्षिप्त] १. उद्बुद्ध, निर्गंत  
(हे ४, २५८)। २. फेंका हुआ, निक्षिप्त  
(प्राभा)। ३. निस्सारित, निष्कासित (शाया  
१, ८—पत्र १४६; १, १६—पत्र १६६)।  
णिच्छुह न [निष्ठयूत] धूक, खबार (विसे  
५०१)।

णिच्छोड सक [निर् + छोटय्] १. बाहर  
निकलने के लिए धमकाना। २. निर्भर्त्सन  
करना। ३. छुड़वाना। णिच्छोडिइ; णिच्छोडेंति  
(शाया १, १६; १८)। णिच्छोडेजा (उवा)।  
संक. णिश्छोडइत्ता (भग १५)।

णिच्छोडग न [निश्छोटन] निर्भर्त्सन, बाहर  
निकालने की धमकी (उव)।

णिच्छोडणा वी [निश्छोटना] ऊपर देखो  
(शाया १, १६—पत्र १६६)।

णिच्छोडिअ वि [निश्छोटित] सफा किया  
हुआ (पिंड २७६)।

णिच्छोल सक [निर् + तक्ष्] छीलना,  
छाल उतारना। निच्छोलेइ (निचू १)। वक्र.  
णिच्छोलंत (निचू १)। संक. निच्छोलिऊण  
(महा)।

णिजंतिय वि [नियन्त्रित] नियमित, अंकुशित  
(सुर ३, ४)।

णिजिण्ण देखो णिजिण्ण (ठा ४, १)।

णिजुंज देखो णिउंज = नि + युञ्। निजुंजइ  
(कुप्र ३४८)।

णिजुद्ध देखो णिउद्ध (निचू १२)।

णिजोजण न [नियोजन] नियुक्ति, कार्य में  
लगाना, भास्त्रपण (उप १७६ टी)।

णिजोजिय देखो णिओइय (उप १७६ टी)।  
णिज वि [दे] सुभ, सोया हुआ (दे ४, २५;  
पइ)।  
णिजंत देखो णी = नी।

णिज्जण वि [निर्जन] १. विजन, मनुष्य-  
रहित, सुनसान। २. न. एकान्त स्थान (गउड)।

णिज्जप्प वि [निर्याप्य] १. निर्वाह-कारक।  
२. निर्वल, बल को नहीं बढ़ानेवाला; 'अरस-  
विरत्तसीयलुनत्तरिणजप्पपाणभोयणाइ' (पएह  
२, ५)।

णिज्जर सक [निर् + ज्] १. क्षय करना,  
नाश करना। २. कर्म-पुद्गलों को आत्मा से  
अलग करना। णिज्जरेइ, णिज्जरए, णिज्जरेति  
(भग; ठा ४, १)। भूका. णिज्जरिसु, णिज्ज-  
रेंसु (पि ५७६; भग)। भवि. णिज्जरिस्संति  
(ठा ४, १)। वक्र. णिज्जरमाण (भग १८,  
३)। कवक. णिज्जरिजमाण (ठा १०;  
भग)।

णिज्जरण न [निर्जरण] नीचे देखो (औप)।

णिज्जरणा वी [निर्जरणा] १. नाश, क्षय।  
२. कर्म-क्षय, कर्म-नाश। ३. जिससे कर्मों का  
विनाश हो ऐसा तप (नव १; सुर १४, ६५)।

णिज्जरा वी [निर्जरा] कर्म-क्षय, कर्म-विनाश  
(आचा; नव २४)।

णिज्जरिय वि [निर्जीर्ण] क्षीण, विनाश-  
प्राप्त (तंडु)।

णिज्जय वि [निर्याप] निर्वाह करानेवाला  
(पंचा १५, १४)।

णिज्जवग वि [निर्यापक] १. निर्वाह करने-  
वाला। २. आराधक, आराधन करनेवाला  
(श्रोष २८ भा)। ३. पुं. जैनमुनि-विशेष,  
जो शिष्य के भारी प्रायश्चित्त का भी ऐसी  
तरह से विभाग कर दे कि जिससे वह उसे  
निवाह सके (ठा ८; भग २५, ७)।

णिज्जवणा वी [निर्यापना] १. निगमन,  
दर्शित अर्थ का प्रत्युच्चारण (विसे २६३२)।  
२. हिंसा (पएह १, १)।

णिज्जवय देखो णिज्जवग (श्रोष २८ भा टी;  
द्र ४६)।

णिज्जविउ वि [निर्यापयित्] ऊपर देखो  
(पव ६४)।

णिज्जा अक [निर् + या] बाहर निकालना।  
णिज्जायंति (भग)। भवि. णिज्जाइस्सामि  
(औप)। वक्र. णिज्जायमाण (ठा ५, ३)।

गिज्ञाण न [निर्याण] १ बाहर निकलना, निगम (ठा ५, ३) । २ आवृत्ति-रहित गमन (श्रीप) । ३ मोक्ष, मुक्ति (श्राव ४) ।

गिज्ञाणिय वि [नैर्याणिक] निर्याण-संबन्धी, निगम-संबन्धी (भग १३, ६; निचू ८) ।

गिज्ञामण } पुं [निर्यामक] कर्णधार,  
गिज्ञामय } जहाज का नियन्ता (विसे २६५६; लाया १, १७; श्रौप; सुर १३, ४८) ।

गिज्ञामण न [निर्यापन] बदला उकाना, 'वेरएणजामण' (वव १) ।

गिज्ञामय पुं [निर्यामक] १ बीमार की सेवा-शुभूपा करनेवाला मुनि (पव ७१) । २ वि. आराधना-कारक (पव-गाया १७) ।

गिज्ञामिय वि [निर्यामित] पार पहुँचाया हुआ, तारित (महा) ।

गिज्ञाय पुं [दे] उपकार (दे ४, ३४) ।

गिज्ञाय वि [निर्यात] निगंत, निःसृत (वसु; उप ५ २८६) ।

गिज्ञायण न [निर्यातन] वैर-शुद्धि, बदला (महा) ।

गिज्ञायणा स्त्री [निर्यातना] ऊपर देखो (उप ४३१ टी) ।

गिज्ञावय देखो गिज्ञामय (भवि) ।

गिज्ञास पुं [निर्यास] बूझों का रस, गोंद, (सुय २, १) ।

गिज्ञिअ वि [निर्जित] जीता हुआ, पराभूत (श्रौव १८ भा टी; सुर ६, ३६; श्रौप) ।

गिज्ञिण सक [निर् + जि] जीतना, पराभव करना। निज्जिणइ (भवि) संकृ. निज्जिणिकुणः (महा) ।

गिज्ञिणिय देखो गिज्ञिअ (सुपा २६) ।

गिज्ञिण्ण } वि [निर्जीण] नाश-प्राप्त,  
गिज्ञिन्न } क्षीण (भग; ठा ४, १) ।

गिज्ञीव वि [निर्जीव] जीव-रहित, चैतन्य वञ्चित (श्रौप; श्रा २०; महा) ।

गिञ्जुज [निर् + युज्] उपकार करना (पिड २६ टी) ।

गिञ्जुत्त वि [निर्युक्त] १ संबद्ध, संयुक्त (विमू १०८५; श्रौव १ भा) । २ लक्षित, जड़ित (श्रौप) । ३ प्रलपित, प्रतिपादित (श्रावम) ।

गिञ्जुक्ति स्त्री [निर्युक्ति] व्याख्या, विवरण, टीका (विसे ६६५; श्रौव २; सम १०७) ।

गिञ्जुद्ध देखो गिउद्ध (स ४७०) ।

गिञ्जूढ वि [निर्युद्ध] १ निस्सारित, निष्कासित (लाया १, १—पत्र ६४) । २ अमनोज्ञ, असुन्दर (श्रौव ५४८) । ३ उद्धृत, ग्रन्थान्तर से अवतारित (दसनि १) ।

गिञ्जूढ वि [निर्युद्ध] रहित, 'निट्ठाणं रस-निञ्जूढं' (दस ८, २२) ।

गिञ्जूह सक [निर् + यूह्] १ परित्याग करना । २ रचना, निर्माण करना । कर्म. गिञ्जूहियइ (पि २२२) । हेक. गिञ्जूहित्तए (वव २) । क. गिञ्जूहियच्च (कप्प) ।

गिञ्जूह पुं [दे. निर्युह] १ नौब, छदि, गृहच्छादन, पाटन (दे ४, २८; स १०६) । २ गवाक्ष, गोक; 'इय जाव चित्तए मंती गिञ्जूहियुओ' (वम्म ६ टी; वव १) । ३ द्वार के पास का काष्ठ-विशेष (लाया १, १—पत्र १२; परह १, १) । ४ द्वार, दरवाजा (सुर २, ८३) ।

गिञ्जूहणं वि [निर्युहक] ग्रन्थान्तर से उद्धृत करनेवाला (दसनि १, १४) ।

गिञ्जूहण न [निर्युहण] देखो गिञ्जूहणा (उत्त ३६, २५१; पव २) ।

गिञ्जूहणया } स्त्री [निर्युहणा] १ निस्सा-  
गिञ्जूहणा } रण, बाहर निकालना (वव १) । परित्याग (ठा ४, २) । ३ विरचना, निर्माण (विसे ५५१) ।

गिञ्जूहित्त देखो गिञ्जूढ (दसनि १, १५) ।

गिञ्जूहित्त वि [निर्युहित्त] रहित (पव १३४) ।

गिञ्जोअ पुं [दे] १ प्रकार, राशि । २ पुष्पों का अवकर (दे ४, ३३) ।

गिञ्जोअ } पुं [नियोग] १ उपकरण,  
गिञ्जोग } सावन (राय ४५; ४६; पिड २६) । २ उपकार (पिड २६) ।

गिञ्जोअ } पुं [दे. नियोग] परिकर,  
गिञ्जोग } सामग्री; 'पावणिकोगो' (श्रौव ६६८; लाया १, १—पत्र ५४) ।

गिञ्जोमि पुं [दे] रज्जु, रस्सी (दे ४, ३१) ।

गिञ्जम अक [स्निह्] स्नेह करना । गिञ्जमइ (प्राक २८) ।

गिञ्जम अक [स्नि] क्षीण होना । गिञ्जमइ (हे ४, २०; पड्) । वक. गिञ्जमरंत (कुमा ६, १३) ।

गिञ्जम वि [दे] जीरा, पुराना (दे ४, २६) ।

गिञ्जम पुं [निर्भर] भरना, पहाड़ से गिरता पानी का प्रवाह (हे १, ६८; २, ६०) ।

गिञ्जमरण न [निर्भरण] ऊपर देखो (पठम ६४, ५२; सुर ६, ६४; सुपा ३५५) ।

गिञ्जमरणी स्त्री [निर्भरणी] नदी, तरंगिणी (कुमा) ।

गिञ्जमा सक [नि + ध्ये] देखना, निरीक्षण करना । गिञ्जमाइ, गिञ्जमाइइ (हे ४, ६) ।

वक. गिञ्जमाअंत, गिञ्जमाएमाण (मा ४; आचा २, ३, १) । संकृ. गिञ्जमाइऊण, गिञ्जमाइत्ता (महा; आचा) ।

गिञ्जमा सक [निर् + ध्ये] विशेष चिन्तन करना । संकृ. गिञ्जमाइत्ता (आचा) ।

गिञ्जमाइ वि [निध्यायिन्] देखनेवाला (आचा) ।

गिञ्जमाइत्तु वि [निध्यात्] देखनेवाला, निरीक्षक (उत्त १६; सम १५) ।

गिञ्जमाइत्तु वि [निध्यात्] अतिशय चिन्तन करनेवाला (ठा ६) ।

गिञ्जमाइय वि [निध्यात्] १ दृष्ट, विलोकित (स ३५२; वण ४५) । २ न. दर्शन, निरीक्षण (महा—पृष्ठ ५८) ।

गिञ्जमाडिय वि [निर्धाटित] विनाशित (उप ६४८ टी) ।

गिञ्जमाय वि [दे] निर्दय, दया-रहित (दे ४, ३७) ।

गिञ्जमाय वि [निध्यात्] दृष्ट, विलोकित (सुर ६, १८८; सुपा ४४८) ।

गिञ्जमूर वि [दे] जीरा, पुराना (दे ४, २६) ।

गिञ्जमोड सक [छिद्] छेदना, काटना । गिञ्जमोडइ (हे ४, १२४) ।

गिञ्जमोडण न [छेदन्] छेदन, कर्तन (कुमा) ।

गिञ्जमोसइत्तु वि [निर्जोपयिन्] क्षय करनेवाला, कर्मों का नाश करनेवाला (आचा) ।

गिट्टेक वि [दे] १ टंक-च्छिन्न । २ विपम, असमान (४, ५०) ।

गिट्टेकिय वि [निष्टद्धित] निरिच्छ, अवचारित (सुपा २६०) ।

गिट् टुअ अक [क्षर] टपकना, चूना।  
गिट् टुअइ (हे ४, १७३)।

गिट् टुअ वि [क्षरित] टपका हुआ (पात्र)।

गिट् टुह अक [वि + गल्] गल जाना,  
नष्ट होना। गिट् टुहइ (हे ४, १७५)।

गिट् टु देखो गिट् टा = नि + स्था। गिट् टुइ (भवि)।

गिट् टुय सक [नि + स्थापय] १ समाप्त  
गिट् टुय करना, पूर्ण करना। २ अन्त करना,  
खतम करना। ३ विशेष रूप से स्थापन  
करना, स्थिर करना। भूका. गिट् टुवंसु (भग  
२६, १)। संक्र. गिट् टुविअ (पिग)। क.  
गिट् टुयणिज्ज (उप ५६७ टी)।

गिट् टुवण न [निष्ठापन] १ अन्त करना,  
समाप्ति। २ वि. नाश-कारक, खतम करने-  
वाला (सुपा १६१; गउड)। ३ समाप्त करने-  
वाला (जो ५)।

गिट् टुवय वि [निष्ठापक] समाप्त करनेवाला  
(आव ६)।

गिट् टुविअ वि [निष्ठापित] १ समाप्त किया  
हुआ (पंचव २)। २ विनाशित (से ६, १)।

गिट् टा अक [नि + स्था] खतम होना,  
समाप्त होना। गिट् टाइ (विसे ६२७)।

गिट् टा वी [निष्ठा] १ अन्त, अवसान, समाप्ति  
(विसे २८३३; सुपा १३)। २ सद्भाव (आव  
१)। भासि वि [भापिन्] निष्ठा-पूर्वक  
बोलनेवाला, निश्चय-पूर्वक भाषण करनेवाला  
(आचा)।

गिट् टाण न [निष्ठाण] सर्व-गुण-युक्त भोजन  
(दस ८, २२)।

गिट् टाण न [निष्ठाण] १ वही वगैरह व्यञ्जन  
(ठा ४, २; परह २, ५)। २ समाप्ति (निवृ  
१)। कहा वी [कथा] मक्त-कथा-विशेष,  
वही वगैरह व्यञ्जन की बात-चीत (ठा ४,  
२)।

गिट् टावण देखो गिट् टवण (सुपा ३५७)।

गिट् टिय वि [निष्ठित] १ समाप्त किया हुआ,  
पूर्ण किया हुआ (उप १०३१ टी; कम्म ४,  
७४)। २ नष्ट किया हुआ, विनाशित (सुपा  
४४६)। ३ स्थिर (से ५, ७)। ४ निष्पन्न,  
सिद्ध (आचा २, १, ६)। ५ पुं. मोक्ष, मुक्ति  
(आचा)। ट्ट वि [र्थ] कृतकृत्य (परए

३६)। ट्टि वि [र्थिन्] मुख्य. मोक्ष का  
इच्छुक (आचा)।

गिट् टिय वि [निष्ठिक] निष्ठा-युक्त, निष्ठावाला  
(परह २, ३)।

गिट् टिव पुं [निष्ठिव] धूक, मुँह का पानी  
(रंभा)।

गिट् टिवण वीन [निष्ठिवन] धूक, खलार।  
२ धूकना (सट्टि ७८ टी)। वी णा (वव  
१)।

गिट् टुअ न [निष्ठयूत] धूक (कुलक ३०)।

गिट् टुभय वि [निष्ठिवक] धूकनेवाला (परह  
२, १; औप)।

गिट् टुयण देखो गिट् टोवण (चेइय ६३)।

गिट् टुर वि [निष्ठुर] निष्ठुर, पक्ष, कठिन  
गिट् टुल (आप्र; हे १, २५४; पात्र; गउड)।

गिट् टुवण न [निष्ठिवन] १ धूक, खलार  
(वव १)। २ वि. धूकनेवाला (ठा ५, १)।

गिट् टुह अक [नि + स्तम्भ] निष्ठम्भ  
करना, निश्चेष्ट होना, स्तब्ध होना। गिट् टु-  
हइ (हे ४, ६७; पड्)।

गिट् टुह अक [नि + ष्ठीव] धूकना  
गिट् टुहवी (तंदु ४१)।

गिट् टुह वि [दे] स्तब्ध, निश्चेष्ट (दे ४,  
३३)।

गिट् टुहण न [दे. निष्ठिवन] धूक, मुँह का  
पानी, खलार (महा)।

गिट् टुहावण वि [निष्ठम्भक] निश्चेष्ट करने-  
वाला, स्तब्ध करनेवाला (कुमा)।

गिट् टुहिअ न [दे] धूक, निष्ठिवन, खलार  
(दे ४, ४१)।

गिट् टु पुं [दे] पिशाच, राक्षस (दे ४, २५)।

गिट् टुल न [ललाट] भाल, ललाट (पि  
गिट् टुल २६०; पउम १००, ५७; सुपा  
२८)।

गिट् टु न [नीड] पक्षि-गृह (पात्र)।

गिट् टुहण न [निर्वहन] जला देना (उप ५६३  
टी)।

गिट् टुह देखो गिट् टुअ। गिट् टुहइ (कुमा;  
पड्)।

गिट् टुय पुं [निनाद] शब्द, आवाज, ध्वनि  
(ग्यामा १, १; पउम २, १०३; से ६, ३०)।

गिट् टुय वि [निम्न] १ नीचा, अवस्तन (उत्त  
१२; उव १०३१ टी)। २ क्रि. नीचे, अघः  
(हे २, ४२)।

गिट् टुयवु क्रि [निस्सारयति] बाहर निकाल-  
ता है, 'ठाणाया ठाणं साहरति, बहिंया वा  
शिरणवु' (आचा २, २, १)।

गिट् टुयगा वी [निम्नगा] नदी, स्रोतस्विनी  
(परए १; परह २, ४)।

गिट् टुयट्ट वि [निर्नेष्ट] नाश-प्राप्त (सुर ६,  
६२)।

गिट् टुयय पुं [निर्णय] १ निश्चय, अवधारण  
(हे १, ६३)। २ फैसला (सुपा ६६)।

गिट् टुयया देखो गिट् टुयगा (पात्र)।

गिट् टुयार वि [निर्नेगर] नगर से निर्गत (भगे  
१५)।

गिट् टुयाला वी [दे] चञ्चु, चोंच (दे ४,  
३६)।

गिट् टुयास सक [निर + नाशय] विनाश  
करना। वक. निन्नासित (सुपा ६५४)।

गिट् टुयास पुं [निर्णाश] विनाश (भवि)।

गिट् टुयासिय वि [निर्णाशित] विनाशित  
(सुर ३, २३१; भवि)।

गिट् टुयाह वि [निर्निद्र] निद्रा-रहित (गा  
६५६)।

गिट् टुयामेस वि [निर्निमेप] १ निमेप-रहित,  
विना पलक भ्रमकाये, एक-टक। २ चेष्टा-  
रहित। ३ अनुपयोगी (ठा ५, २)।

गिट् टुयाी सक [निर + णी] निश्चय करना।  
संक्र. निण्णइउं (वर्मवि. १३६)।

गिट् टुयाीथ वि [निर्णीत] निश्चित, नक्की  
किया हुआ (आ १२)।

गिट् टुयाण्णअ वि [निम्नोन्नत] ऊँचा-नीचा,  
विपम (अभि २०६)।

गिट् टुयाह वि [निःस्नेह] स्नेह-रहित (हे ४,  
३६७; सुर ३, २२२; महा)।

गिट् टुयाइया वी [निह्विका] लिपि-विशेष  
(सम ३५)।

गिट् टुया पुं [निह्व] १ सत्य का अपलाप  
गिट् टुयाय करनेवाला, मिथ्यावादी (श्रीघ  
गिट् टुयाय ४० भा; ठा ७; औप) २ अप-  
लाप (संघ ४१)।

गिट् टुयाय सक [नि + ह. तु] अपलाप करना।  
शिरणहवइ (विसे २२६६; हे ४, २३६)।



कर्म. गिण्हवीअदि ( शौ ) ( नाट—रत्ना ३९ ) । वक्र. गिण्हवंत, गिण्हवेमाण ( उप २११ टी; सुर ३, २०१ ) ।  
 गिण्हवग वि [ निहावक ] अपलाप करने-वाला ( शोष ४८ भा ) ।  
 गिण्हवण न [ निहवन ] अपलाप ( विपा १, २; उव ) ।  
 गिण्हवण वि [ निहवन ] अपलाप-कर्ता ( संवोध ५ ) ।  
 गिण्हविद देखो गिण्हुविद ( नाट—शकु १२९ ) ।  
 गिण्हुय वि [ निह्नुत ] अपलपित ( सुपा २६८ ) ।  
 गिण्हुव देखो गिण्हव = नि + ह्नु । कर्म. गिण्हुविज्जति ( पि ३३० ) ।  
 गिण्हुविद ( शौ ) वि [ नि + ह्नुत ] अपलपित ( पि ३३० ) ।  
 गितिय देखो गिच्च ( आचा; ठा १० ) ।  
 गितुडिअ वि [ नितुडित ] ह्त्ता हुआ, छिन्न ( अन्नु ५४ ) ।  
 गित्त देखो गेत्त ( पात्र; सुपा २९१; लहुअ १४ ) ।  
 गित्तम वि [ निस्तमस् ] १ अन्वकार-रहित । २ अज्ञान-रहित ( अजि ८ ) ।  
 गित्तल वि [ दे ] अनिवृत्त ( भग १५ ) ।  
 गित्ति ( अप ) देखो गीइ ( भवि ) ।  
 गित्तिस वि [ निच्चिसा ] निर्दय; कल्या-हीन ( सुपा ३१५ ) ।  
 गित्तिरडि वि [ दे ] निरन्तर, अव्यवहित ( दि ४, ४० ) ।  
 गित्तिरडिअ वि [ दे ] श्रुद्धि, ह्त्ता हुआ ( दि ४, ४१ ) ।  
 गित्तुप्प वि [ दे ] स्नेह-रहित, घृत आदि से वञ्चित ( वृह १ ) ।  
 गित्तुल वि [ निस्तुल ] १ निरुपम, असाधारण ( उप पृ ५३ ) । २ क्रि. असाधारण रूप से; 'अरण्हा नित्तुलं मरसि' ( सुपा ३४५ ) ।  
 गित्तुस वि [ निस्तुप ] तुष-रहित, भूसा से-रहित, विशुद्ध ( परह २, ४; उप १७९ टी ) ।  
 गित्तेय वि [ निस्तेजस् ] तेज-रहित ( एया १, १ ) ।

गित्थणण न [ निस्तनन ] विजय-सूचक ध्वनि ( सुर २, २३३ ) ।  
 गित्थर सक [ निर + त् ] पार करना, पार उतरना । गित्थरेइ ( सुपा ४४९ ); 'गित्थरंति खनु कायरवि पायनिज्जामय-गुणेण महएणदं' ( स १६३ ) । क्वक. गित्थरिज्जंत ( राज ) । क. गित्थरियज्व ( एया १, ३; सुपा १२६ ) ।  
 गित्थरण न [ निस्तरण ] पार-नमन, पार-प्राप्ति ( ठा ४, ४; उप १३४ टी ) ।  
 गित्थरिअ देखो गित्थिणण ( उप १३४ टी ) ।  
 गित्थाण वि [ निःस्थान ] स्थान-रहित, स्थान-त्रुट ( एया १, १८ ) ।  
 गित्थाम वि [ निःस्थामन् ] निर्वल; कमजोर, मन्द ( पात्र; गउड; सुपा ४८६ ) ।  
 गित्थार सक [ निर + तारय् ] १ पार उतारना, तारना । २. वचाना, छुटकारा देना । गित्थारसु ( काल ) ।  
 गित्थार पुं [ निस्तार ] १ छुटकारा, मुक्ति । २ वचाव, रक्षा । ३ उद्धार ( एया १, ९ टी—पत्र १६९; सुर ३, ५१, ७, २०१; सुपा २९९ ) ।  
 गित्थारग वि [ निस्तारक ] पार जानेवाला, पार उतरनेवाला ( स १८३ ) ।  
 गित्थारणा स्त्री [ निस्तारण ] पार-प्रापण, पार पहुँचाना ( जं ३ ) ।  
 गित्थारिय वि [ निस्तारित ] वचाया हुआ, रक्षित, उद्घृत ( भग; सुपा ४४९ ) ।  
 गित्थिणण वि [ निस्तीर्ण ] १ उत्तीर्ण, पार-गित्थिणण प्राप्त; 'गित्थिणणो समुदं' ( स ३६७ ) । २ जिसको पार किया हो वह, 'गित्थिण्णा आवया गदं' ( सुर ८, ८९ ); 'गित्थिण्णमवसमुद्दो' ( स १३९ ) ।  
 गिदंस सक [ नि + दर्शय् ] १ उदाहरण बतलाना, दृष्टान्त दिखाना । २ दिखाना । गिदंसैइ ( पिग ) । वक्र. गिदंसंत ( सुपा ८९ ) ।  
 गिदंसण न [ निदर्शन ] १ उदाहरण, दृष्टान्त ( अग्नि २०३ ) । २ दिखाना ( ठा १० ) ।  
 गिदंसअ वि [ निदर्शित ] प्रदर्शित, दिखाना हुआ; 'एवं विचित्तिअणं निर्दसिअो नियकरो

मए तीए' ( सुर ६, ८२; उप ९९७; सार्ध ४० ) ।  
 गिदरिसण देखो गिदंसण ( उव; उप ३८४ ) ।  
 गिदरिसिम वि [ निदर्शित ] उपदर्शित, बत-लाया हुआ ( वर्मंतं १००० ) ।  
 गिदा स्त्री [ दे ] १ वेदना-विशेष, ज्ञान-युक्त वेदना ( भग १९, ५ ) । २ जानते हुए भी की जाती प्राणि-हिंसा ( पिड ) ।  
 गिदाण देखो गिआण ( विपा १, १; अंत १५; नाट—वेणी ३३ ) ।  
 गिदाया देखो गिदा ( परण ३५ ) ।  
 गिदाह पुं [ निदाघ ] १ घर्म, घाम, उष्ण । २ ग्रीष्म-काल, गरमी का मौसिम । ३ जेठ मास ( श्राव ५ ) ।  
 गिदाह पुं [ निदाघ ] तीसरा नरक का एक नरक-स्थान ( देवेन्द्र ८ ) ।  
 गिदाह पुं [ निदाह ] असाधारण दाह ( श्राव ५ ) ।  
 गिदेस पुं [ निदेश ] आज्ञा, हुकुम ( कुप्र ४२९ ) ।  
 गिदेसिअ वि [ निदेशित ] १ प्रदर्शित । २ उक्त, कथित ( पउम ५, १४५ ) ।  
 गिदोच्च न [ दे ] १ भय का अभाव । २ स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती ( पव २६८ ) ।  
 गिदंभाण न [ निद्राध्यान ] निद्रा में होना ध्यान, दुर्ध्यान-विशेष ( श्राव ) ।  
 गिदंदि वि [ निद्वन्द्व ] द्वन्द्व-रहित, क्लेश-वञ्चित ( सुपा ४५५ ) ।  
 गिदंभ वि [ निदंभ ] दम्भ-रहित, कपट-रहित ( सुपा १४७ ) ।  
 गिदडी ( अप ) देखो गिदा = निद्रा ( पि ५९९ ) ।  
 गिदड्ढ वि [ निदग्ध ] १ जलाया हुआ, मस्म किया हुआ ( सुर १४, २६; अंत १५ ) । २ पुं. नृप-विशेष ( पउम ३२, २२ ) । ३ रत्न-प्रभा-नामक नरक-मृषिवी का एक नरकावास ( ठा ६ ) । ४ भुज्ज पुं [ मध्य ] नरकावास-विशेष, एक नरक-प्रदेश ( ठा ६ ) । ५ वित्त पुं [ वित्त ] नरकावास-विशेष ( ठा ६ ) । ६ ०सिद्ध पुं [ वशिष्ट ] नरक-प्रदेश-विशेष ( ठा ६ ) ।  
 गिदय वि [ निर्दय ] दया-हीन, कल्या-रहित, निष्पूर ( परह १, १; गउड ) ।

णिदलण न [निर्दलन] १ मदन, विदारण (आत्मा) । २ वि. मदन करनेवाला (वजा ४२) ।

णिदलिअ वि [निर्दलित] मदित; विदारित (पात्र; सुर ५, २२२; चाध ७६) ।

णिदह सक [निर् + दह] जला देना, भस्म करना । निदहइ (महाउ उप) । णिद-हेज्जा (पि २२२) ।

णिदा अक [नि + द्रा] निद्रा लेना, नोंद करना । णिदाइ (पड्) । वक्क. णिदाअंत (से १, ५६) ।

णिदा वी [निद्रा] १ निद्रा, नोंद (स्वप्न ५६; कप्पु) । २ निद्रा-विशेष, वह निद्रा जिसमें एकाव्य आवाज देने पर ही आदमी जाग उठे (कम्म १, ११) । अंत वि [अन्] निद्रा-युक्त, निद्रित्त (से १; ५६) । करी वी [करी] लता-विशेष (दे ७, ३४) । णिदा वी [निद्रा] निद्रा-विशेष, वह निद्रा जिसमें बड़ी कठिनाई से आदमी उठाया जा सके (कम्म १, ११; सम १५) । ल, लु वि [अन्] निद्रावाला (संति २०; पि ५६५; प्राप्र) । अवि वि [अन्] निद्रा देनेवाला (से ३, ४३) ।

णिदाअ वि [निद्रात] जो नोंद में हो (से १, ५६) ।

णिदाअ वि [निर्दाव] अग्नि-रहित (से १, ५६) ।

णिदाअ वि [निर्दाव] दाय-रहित, पैतृक धन से वार्जित (से १, ५६) ।

णिदाइअ वि [निद्रित्त] निद्रा-युक्त (महा) ।

णिदाणी वी [निद्राणी] विद्यादेवी-विशेष (पउम ७, १४४) ।

णिदाया देखो णिदा (परण ३५) ।

णिदारिअ वि [निर्दारित] खरिडत, विदारित (से ५, ८३; १३, ६५) ।

णिदाव वि [निर्दाव] १ वावनल-रहित । २ जंगल-रहित (से ३, ४३) ।

णिदिट्ठ वि [निर्दिष्ट] १ कथित, उक्त (भग) । २ प्रतिपादित, निरूपित (पंचा ३; दंत) ।

णिदिट्ठ वि [निर्दिष्ट] निर्देश करनेवाला (विसे १५०४; विक्क ६४) ।

णिदिस सक [निर् + दिश] १ उच्चारण करना, कथन करना । २ प्रतिपादन करना, निरूपण करना । निदिसइ (विसे १५२६) ।

कर्म. णिदिसइ (नाट—मालवि ५३) । हेक्क. निदेट्ठुं (पि ५०६) । क्क. णिदिस्स, णिदेस (विसे १५२३) ।

णिदुक्ख वि [निर्दुःख] दुःख-रहित, सुखी (सुपा ५३७) ।

णिदुदुर पुं [दे. नेत्तर] देश-विशेष (इक) ।

णिदुदुसण वि [निर्दुषण] निर्दोष (वर्मवि २०) ।

णिदेस पुं [निर्देश] १ लिंग या अर्थ-मात्र का कथन (ठा ८—पत्र ४२७) । २ विशेष का अभिधान; 'अविसेसियमुद्देशो विसेसिओ होइ निद्देशो' (विसे: १४६७; १५०३) । ३ निश्चय पूर्वक कथन (विसे १५२६) । ४ प्रतिपादन, निरूपण (उत्त १; सुंदि) । ५ आज्ञा, हुक्म (पात्र, दस ६, २) । ६ वि. जिसको देश-निकाले की आज्ञा हुई हो वह (पउम ४, ८२) ।

णिदेसण वि [निर्देशक] निर्देश करने-वाला (विसे १५०८; १५००) ।

णिदोत्थ न [निर्दोःस्थ] १ दुःस्यता का अभाव (वव ४) । २ वि. स्वस्य, दुःस्यता-रहित (वव ७) ।

णिदोस वि [निर्दोष] दोष-रहित, दूषण-वार्जित, विशुद्ध (गउड; सुर १, ७३) ।

णिद्व न [स्निग्ध] स्नेह, रस-विशेष (ठा १; अणु) । २ वि. स्नेह-युक्त, चिकना (हे २, १०६; उव; पड्) । ३ कान्ति-युक्त, तेजस्वी (वृह ३) ।

णिद्वंत वि [निर्धाम्त] अग्नि-संयोग से विशो-चित, मल-रहित (परह १, ४; श्रौष) ।

णिद्वंस वि [दे] १ निर्दय, निष्ठुर (दे ४, ३७; श्रौष ४४५; पात्र; पुष्प ४५४; सट्ठि २६; सुपा २४५; आ ३६) । २ निलज्ज, बेरारम (विसे १२८) ।

णिद्वण वि [निर्धन] धन-रहित, अकिंचन (हे २, ६०; णाया १, १८; दे ४, ५; उप ७६ टी; महा) ।

णिद्वण वि [निर्धान्य] धान्य-रहित (तंडु) ।

णिद्वम वि [दे] अविभिन-गृह, एक ही घर में रहनेवाला (दे ४, ३८) ।

णिद्वमण न [दे] खाल, मोरी, पानी जाने का रास्ता (दे ४, ३६; उर २, १०; ठा ५, १; आवम; तंदु; उव; णाया १, २) ।

णिद्वमण न [निर्धामन] १ तिरकार, अ-हेलना (उप पृ ३४६) । २ पुं. यक्ष-विशेष (आव ४) ।

णिद्वमाय वि [दे] अविभिन-गृह, एक ही घर में रहनेवाला (दे ४, ३८) ।

णिद्वम्म वि [दे] एकमुख-यायी, एक ही तरफ जानेवाला (दे ४, ३५) ।

णिद्वम्म वि [निर्धर्मन्] धर्म-रहित, अधर्मी (आ २७) ।

णिद्वय वि [दे] देखो णिद्वम (दे ४, ३८) ।

णिद्वाइजण देखो णिद्वाय ।

णिद्वाइसक [निर् + धाट्य] बाहर निकाल देना । कर्म. निद्वाइसई (संबोध १६) ।

णिद्वाइण न [निर्धाटन] निस्सारण, निष्कासन, बाहर निकालना (परह. १, १) ।

णिद्वाइविय वि [निर्धाटित] अन्य द्वारा बाहर निकलवाया हुआ, अन्य द्वारा निस्सारित (महा) ।

णिद्वाइविय वि [निर्धाटित] निस्सारित, निष्कासित (पात्र; भवि) ।

णिद्वारण न [निर्धारण] १ गुण या जाति आदि को लेकर समुदाय से एक भाग का पृथक्करण । २ निश्चय, अवधारण (विसे ११६८) ।

णिद्वाय सक [निर् + धाव्] दौड़ना । संक्क. णिद्वाइजण (महा) ।

णिद्वायि वि [निर्धावित] दौड़ा हुआ, धावित (महा) ।

णिद्वुण सक [निर् + धू] १ विनाश करना । २ दूर करना । संक्क. निद्वुणे, णिधूय (दस ७, ५७; सूअ १, ७) ।

णिद्वुणिय वि [निर्धूत] १ विनाशित, णिद्वुय नष्ट किया हुआ । २ अपनीत (सुपा ५६६; श्रौष) ।

णिद्वूम वि [निर्धूम] १ धूम-रहित (कप्प; पउम ५३, १०) । २ एक तरह का अपलसण (वव २) ।

गिद्वय देखो गिद्वय (जीव ३)।  
 गिद्वोअ वि [निद्वोते] १ धोया हुआ (गा ६३६; से १४, १६; स १६१)। २ निर्मल, स्वच्छ; 'निद्वोयउदयकंतिर—'(वजा १५८)।  
 गिद्वोभास वि [स्निग्धवभास] चमकीला, स्निग्धपन से चमकता (गाया १, १—पत्र ४)।  
 गिधण न [निधन] विनाश, मृत्यु, मौत (नाट—मृच्छ २५२)।  
 गिधत्त वि [निधत्त] निकाचित, निश्चित (ठा ८—पत्र ४३४)।  
 गिधत्त न [निधत्त] १ कर्मों का एक तरह का अवस्थान, ववे हुए कर्मों का तम सूची-समूह को तरह अवस्थान। २ वि. निविड़ भाव को प्राप्त कर्म-पुद्गल (ठा ४, २)।  
 गिधत्ति वी [निधत्ति] करण-विशेष, जिससे कर्म-पुद्गल निविड़ रूप से व्यवस्थापित होता है (पंच ५)।  
 गिधम्म देखो गिद्धम्म = निर्धम्म (शोध ३७ भा)।  
 गिधाण देखो गिहाण (नाट—महावीर १२०)।  
 गिधूय देखो गिद्वुण।  
 गिन्नाम सक [निर् + नमय्] नमाना, भुक्ताना। गिन्नामए (सूत्र १, १३, १५)।  
 गिन्नीय देखो गिण्णीअ (धर्मवि ५)।  
 गिपट्ट न [दे] गाड़ (प्राक् ३८)।  
 गिपडिय वि [निपतित] नीचे गिरा हुआ (सण)।  
 गिपा सक [नि + पा] पीना। संक. निपीय (सम्मत्त २३०)।  
 गिपाइ वि [निपातिन्] १ नीचे गिरने-वाला। २ सामने गिरनेवाला (सूत्र १, ५)।  
 गिपूर पुं [निपूर] नदीबुझ (आचा २, १, ८, ३)।  
 गिप्पअं प देखो गिप्पकंप (से ६, ७८)।  
 गिप्पएस वि [निप्पदेश] १ प्रदेश-रहित। २ पुं. परमाणु- (विसे)।  
 गिप्पंक वि [निप्पक] कर्दम-रहित, पांक-रहित (सम १३७; भग)।  
 गिप्पंकिय वि [निप्पकिय] पंक-रहित (भवि)।  
 गिप्पंख सक [निर् + पक्षय्] पक्ष-रहित

करना, पंख तोड़ना। गिप्पंखेति (विपा १, ८)।  
 गिप्पंद वि [निप्पन्द] चलन-रहित, स्थिर (से २, ४२)।  
 गिप्पकंप वि [निप्पकंप] कम्प-रहित, स्थिर (सम १०६; परह २, ४)।  
 गिप्पकल वि [निप्पकल] पंख-रहित (गड्ड)।  
 गिप्पगल वि [निप्पगल] टपकनेवाला, झरने-वाला, दूनेवाला (शोध ३५; शोध ३४ भा)।  
 गिप्पच्चवाय वि [निप्पत्त्यवाय] १ प्रत्यवाय-रहित, निविधन (शोध २४ टी)। २ निर्दोष, विशुद्ध, पवित्र; 'गिप्पच्चवायचरणा कज्जं साहंति' (सार्ध ११७)।  
 गिप्पच्छिम वि [निप्पच्छिम] १ अन्तिम, अन्त का (से १२, २१)। २ परिशिष्ट, अवशिष्ट, बाकी का; 'गिप्पच्छिमाई असई दुक्खालोआई महअपुष्पाई' (गा १०४)।  
 गिप्पट्ट वि [दे] अधिक (दे ४, ३१)।  
 गिप्पट्ट वि [निःस्पट्ट] अस्पष्ट, अव्यक्त।  
 \*पसिणवागरण वि [प्रश्नव्याकरण] निरु-त्तर क्रिया हुआ (भग १५; गाया १, ५; उवा)।  
 गिप्पट्ट वि [निःस्पट्ट] नहीं हुआ हुआ।  
 \*पसिणवागरण वि [प्रश्नव्याकरण] निरुत्तर किया हुआ (भग १५)।  
 गिप्पडिक्कम्म वि [निप्पतिकर्मन्] संस्कार-रहित, परिष्कार-वर्जित, मलिन (सम ५७; सुपा ४८५)।  
 गिप्पडियार वि [निप्पतिकार] निरुपाय, प्रतिकार-वर्जित (परह २, ४)।  
 गिप्पपिअ वि [दे] जल-बौत, पानी से धोया हुआ (पड्)।  
 गिप्पण्ण देखो गिप्पण्ण (गा ६८६)।  
 गिप्पण्ण वि [निप्पण्ण] बुद्धि-रहित, प्रज्ञा-शून्य (उप १७६ टी)।  
 गिप्पत्त वि [निप्पत्त] पत्र-रहित (गा ८८७; वव १)।  
 गिप्पत्ति देखो गिप्पत्ति (पंचा १८; संक्षि गिप्पदि ६)।  
 गिप्पन्न देखो गिप्पण्ण (कुप्र २०८)।  
 गिप्पभ वि [निप्पभ] निस्तेज, फीका (महा)।

गिप्परिग्गह वि [निप्परिग्रह] परिग्रह-रहित (उत्त १४)।  
 गिप्पल्लिययण वि [निप्पल्लियचन] निरुत्तर, उत्तर देने में असमर्थ (सम ६०)।  
 गिप्पसर वि [निप्पसर] प्रसर-रहित, जिसका फैलाव न हो (पि ३०५)।  
 गिप्पह देखो गिप्पभ (से १०, १२; हे २, ५३)।  
 गिप्पाइय देखो गिप्पाइय (कुप्र १६६)।  
 गिप्पाण वि [निप्पाण] प्राण-रहित, निर्जीव (गाया १, २)।  
 गिप्पाल देखो गेपाल (धर्मवि ६६)।  
 गिप्पाव पुं [निप्पाव] एक दिन का उपवास (संवेध ५८)।  
 गिप्पाव देखो गिप्पाव (पि ३०५)।  
 गिप्पिच्छ वि [दे] १ ऋजु, सरल। २ दृढ़, मजबूत (दे ४, ४६)।  
 गिप्पिट्ट वि [निष्पिट्ट] पीसा हुआ (दे ८, २०; सण)।  
 गिप्पिट्ट न [निष्पिट्ट] पेयण की समाप्ति (पिड ६०२)।  
 गिप्पिवास वि [निष्पिपास] पिपासा-रहित, तृष्णा-वर्जित, निःस्पृह (परह १, १; गाया १, १; सुर १, १३)।  
 गिप्पिवासा वी [निष्पिपासा] स्पृहा का अभाव (वि १८)।  
 गिप्पिह वि [निःस्पृह] स्पृहा-रहित, निर्मम (हे २, २३; उप ३२० टी)।  
 गिप्पीडिअ वि [निष्पीडित] दबाया हुआ (से ५, २५)।  
 गिप्पीलण न [निष्पीडन] दबाव, दवाना (आचा)।  
 गिप्पील्लिय देखो गिप्पीडिअ। २ निचोड़ा हुआ; 'निप्पील्लियाई पोत्ताई' (स ३३२)।  
 गिप्पुंसण न [निप्पुंसण] १ पोंछना, मार्जन। २ अभिमर्दन (हे २, ५३)।  
 गिप्पुन्न वि [निप्पुण्यं] पुण्य-रहित (कुप्र ३१८)।  
 गिप्पुन्नग वि [निप्पुण्यक] १ पुण्य-रहित। २ पुं. स्वनाम-ख्यात एक कुलपुत्र (सुपा ५४५)।  
 गिप्पुलाय पुं [निप्पुलाक] आगामी चौबीसी में होनेवाले एक स्वनाम-ख्यात जिन-देव (सम १५३)।

गिष्पुलाय वि [निष्पुलाक] चारित्र-दोष से रहित (दस १०, १६) ।  
 गिष्पुदं देखो गिष्पुदं (हे २, २११; णाया १, २; सुर ३, १७२) ।  
 गिष्पुस वि [दे] निर्विश, निर्दय (पड्) ।  
 गिष्पुज्ज अक [निर् + पद] नीपजना, उपजना, सिद्ध होना । गिष्पुज्ज (स ६१६) ।  
 वक्क. गिष्पुज्जमाण (परह १, ४) ।  
 गिष्पुडिअ वि [निष्पटित] १ विशेषण । २ जिसका मिजाज ठिकाने पर न हो । ३ अंकुश-रहित (उप १२० टी) ।  
 गिष्पुण वि [निष्पन्न] नीपजा हुआ, बना हुआ, सिद्ध (से २, १२; महा) ।  
 गिष्पुत्ति वि [निष्पत्ति] निष्पादन, सिद्धि (उव; उप २०० टी; सार्व १०६) ।  
 गिष्पुन्न देखो गिष्पुण (कप्प; णाया १, १६) ।  
 गिष्परिस वि [दे] निर्दय, दया-हीन (दे ४, ३७) ।  
 गिष्फल वि [निष्फल] फल-रहित; निरर्थक (से १४, २६; गा १३६) ।  
 गिष्फाअ देखो गिष्फाय (प्राप्र) ।  
 गिष्फाइज्जण देखो गिष्फाय ।  
 गिष्फाइय वि [निष्पादित] नीपजाया हुआ, बनाया हुआ, सिद्ध किया हुआ (विसे ७ टी; उप २११ टी; महा) ।  
 गिष्फाय सक [निर् + पादय्] नीपजाना, बनाना, सिद्ध करना । सक्र. गिष्फाइज्जण (पंचा ७) ।  
 गिष्फायग वि [निष्पादक] नीपजानेवाला, बनानेवाला, सिद्ध करनेवाला (विसे ४८३; ठा ६; उप ८२८) ।  
 गिष्फायण न [निष्पादन] नीपजाना, निर्माण, कृति (आव ४) ।  
 गिष्फाय पुं [निष्पाव] धान्य-विशेष, वल्ल (हे २, ५३; परण १; ठा ५, ३; आ १८) ।  
 गिष्फाय पुं [निष्पाव] एक माप, वांट-विशेष (अणु १५५) ।  
 गिष्फड अक [नि + रिफट्] बाहर निकलना । वक्क. गिष्फडंत (स ५७४) ।  
 गिष्फिअ वि [निष्फिटित] निर्गत, बाहर निकला हुआ (पउम ६, २२७; ८०, ६०) ।

गिष्फुर पुं [निष्फुर] प्रभा, तेज (गउड) ।  
 गिष्फेड पुं [निष्फेट] निर्गमन, बाहर निकलना (उप वृ २५२) ।  
 गिष्फेडय वि [निष्फेटक] बाहर निकालनेवाला (सूय २, २, ८५) ।  
 गिष्फेडय वि [निष्फेटित] १ निस्तारित, निष्कासित (सूय २, २) । २ भगाया हुआ, नसाया हुआ (पुष्क १२५) । ३ अपहृत, छीना हुआ (ठा ३, ४) ।  
 गिष्फेडिया वी [निष्फेटिका] अपहरण, चोरी; 'एसा पढमा सीसनिष्फेडिया' (सुख २, १३; पव १०७) ।  
 गिष्फेस पुं [दे] शब्द-निर्गम, आवाज निकलना (दे ४, २६) ।  
 गिष्फेस पुं [निष्पेष] १ पेषण, पीसना । २ संघर्ष (हे २, ५३) ।  
 गिष्बंध सक [नि + बन्ध्] १ बांधना । २ करना । निबंध (भग) ।  
 गिष्बंध सक [नि + बन्ध्] उपाजन करना । गिष्बंधति (पंचा ७, २२) ।  
 गिष्बंध पुं [निबन्ध] १ संबन्ध, संयोग (विसे ६६८) । २ आग्रह, हठ (महा); 'गिष्बन्धाणि' (पि ३५८) ।  
 गिष्बंधण न [निबंधन] कारण, प्रयोजन, निमित्त (पाय; प्रासु ६६) ।  
 गिष्बद्ध वि [निबद्ध] १ बंधा हुआ (महा) । २ संयुक्त, संबद्ध (से ६, ४४) ।  
 गिष्बिड वि [निबिड] साध, घना, गाढ़ (गउड; कुमा) ।  
 गिष्बिडिय वि [निबिडित] निबिड किया हुआ (गउड) ।  
 गिष्बुक्क [दे] देखो गिष्बुक्क (परह १, ३—पत्र ४६) ।  
 गिष्बुक्क अक [नि + मस्ज्] निमज्ज करना, ह्वना । वक्क. गिष्बुक्कज्जंत, गिष्बुक्कमाण (अचु ६३; उवा) ।  
 गिष्बुक्क वि [निमज्ज] ह्वना हुआ, निमज्ज (गा ३७; सुर ३, ५१, ४, ८०) ।  
 गिष्बुक्कण न [निमज्ज] ह्वना, निमज्ज (पउम १०, ४३) ।  
 गिष्बोल देखो गिष्बुक्क = नि + मस्ज् । वक्क. गिष्बोलिज्जमाण (राज) ।

गिष्बोह पुं [निबोध] १ प्रकृत बोध, उत्तम ज्ञान । २ अनेक प्रकार का बोध (विसे २१८७) ।  
 गिष्बोहण न [निबोधन] प्रबोध; समझाना (पउम १०२, ६२) ।  
 गिष्बन्ध पुं [निबन्ध] आग्रह (गा ६७५; महा; सुर ३, ८) ।  
 गिष्बन्धण न [निबन्धन] निबन्धन, हेतु, कारण; 'सारीरियखेयनिबन्धणां घणां' (काल) ।  
 गिष्बल देखो गिष्बल = निर् + पद । गिष्बलद (प्राकृ ६४) ।  
 गिष्बल वि [निर्वल] बल-रहित, दुर्बल (आचा) ।  
 गिष्बहिं अ [निर्वहिस्] अत्यन्त बाहर (ठा ६—पत्र ३५२) ।  
 गिष्बाहिर वि [निर्वाह्य] बाहर का, बाहर गया हुआ; 'संजमनिब्बाहिरा जाया' (उवा) ।  
 गिष्बुक्क वि [दे] १ निर्मूल, मूल-रहित । २ क्रि. मूल से; 'गिष्बुक्कच्छिएणघय' (परह १, ३—पत्र ४५) ।  
 गिष्बुक्क देखो गिष्बुक्क = निमज्ज (स ३६०; गउड) ।  
 गिष्भच्छण देखो गिष्भच्छणा (उव ३०३) ।  
 गिष्भंजण न [दे] पक्वान्त के पकाने पर जो शेष घृत रहता है वह (पमा ३३) ।  
 गिष्भंत वि [निर्भान्त] निःसंदेह, संशय-रहित (ति १४) ।  
 गिष्भग्ग न [दे] उद्यान, वगीचा (दे ४, ३४) ।  
 गिष्भग्ग वि [निर्भाग्य] भाग्य-रहित, कम-नसीब, अभागा (उप ७२८ टी; सुपा ३८५) ।  
 गिष्भच्छ सक [निर् + भस्स्] १ तिरस्कार करना, अपमान करना, श्रवहेलना करना, आकोश-पूर्वक अपमान करना । गिष्भच्छेइ, गिष्भच्छेजा (णाया १, १८; उवा) । सक्र. गिष्भच्छिअ (नाट—मालती १७१) ।  
 गिष्भच्छण न [निर्भर्त्सन] तिरस्कार, अपमान; पठ्य वचन से श्रवहेलना (परह १, ३; गउड) ।  
 गिष्भच्छणा वी [निर्भर्त्सना] ऊपर देखो (भग १५; णाया १, १६) ।

गिठमच्छिअ वि [निर्भसित] अपमानित, अर्हलित (गा ८६८; सुपा ४०७) ।  
 गिठभय वि [निर्भय] भय-रहित, निडर (साया १, ४; महा) ।  
 गिठभर सक [निर् + भृ] भरना, पूर्ण करना । क्वकृ. गिठभरंत (से १५, ७५) ।  
 गिठभर वि [निर्भर] ? पूर्ण, भरपूर (से १०, १७) । २ व्यापक, फैलनेवाला (कुमा) । ३ क्रि. पूर्ण रूप से 'भयो य एण्ठरं वरिसइ' (आवम) ।  
 गिठिभद सक [निर् + भिद्] तोड़ना, विदारण करना । क्वकृ. गिठिभज्जंत, गिठिभज्जमाण (से १४; २६; भग १८, २, जीव ३) ।  
 गिठिभच्च वि [निर्भीक] भय-रहित, निडर (सुपा १४३; २४६; २७५) ।  
 गिठिभज्जंत } देखो गिठिभद ।  
 गिठिभज्जमाण }  
 पिठिभट्ट वि [दे] आक्रान्त (भवि) ।  
 गिठिभण वि [निर्भण] ? विदारित, तोड़ा हुआ (पाय) । २ विद (से ५, ३४) ।  
 गिठिभीअ वि [निर्भीक] भय-रहित, निडर (से १३, ७०) ।  
 गिठिभुग वि [दे] भग्न, खरिडत (दे ४, ३२) ।  
 गिठिभुय देखो गिभुअ (चिइय ५८६) ।  
 गिठिभय पुं [निर्भेद] भेदन, विदारण (सुपा ३२७) ।  
 गिठिभेयण न [निर्भेदन] ऊपर देखो (सुर २, ६६) ।  
 गिठिभेरिय वि [निर्भेरित] प्रसारित, फैलाया हुआ (उत्त १२, २६) ।  
 गिभ देखो गिह = निम (उत्त; जं ३) ।  
 गिभच्छण देखो गिठमच्छण (पिठ २१०) ।  
 गिभंग पुं [निभङ्ग] भङ्गन, खरिडन, शोचन (राज) ।  
 गिभाल सक [नि + भालय] देखना, निरीक्षण करना । गिभालेहि (आवम) । क्वकृ. गिभालयंत (उप पृ ५३) । क्वकृ. गिभालिज्जंत (उप ६८६ टी) ।  
 गिभालिय वि [निभालित] दृष्ट, निरीक्षित (उप पृ ५८) ।

गिभिअ } देखो गिहुअ (पएह २, ३; गा  
 गिभुअ } ८००) ।  
 गिभेल सक [निर् + भेलय] बाहर करना । क्वकृ. गिभेलंत (पएह १, ३—पत्र ४५) ।  
 गिभेयण न [दे] गृह, घर, स्थान (कप्प) ।  
 गिम सक [नि + अस] स्थापन करना । गिमइ (हे ४, १६६; पड) । गिमइ (पि ११८) । क्वकृ. गिमंत (से १, ४१) ।  
 गिमंत सक [नि + मन्त्रय] निमन्त्रण देना, न्यौता देना । गिमंतइ (महा) । क्वकृ. गिमंतेमाण (आचा २, २, ३) । संकृ. गिमंतिज्जण (महा) ।  
 गिमंतण न [निमन्त्रण] निमन्त्रण, न्यौता, वृत्तावा (उप पृ ११३) ।  
 गिमंतणा वी [निमन्त्रणा] ऊपर देखो (पंचा १२) ।  
 गिमंतिय वि [निमन्त्रित] जिसको न्यौता दिया गया हो वह (महा) ।  
 गिमग वि [निमग्न] डूबा हुआ (पउम १०६, ४; औप) । °जल वी [°जल] नदी-विशेष (जं ३) ।  
 गिमज्ज सक [नि + मस्ज] डूबना, निमज्जन करना । गिमज्जइ (पि ११८) । क्वकृ. गिमज्जंत (गा ६०६; सुपा ६४) ।  
 गिमज्जग वि [निमज्जक] ? निमज्जन करनेवाला । पुं. वानप्रस्थायमो तापस-विशेष, जो स्नान के लिए थोड़े समय तक जलाशय में निमज्जन करते हैं (श्रौप) ।  
 गिमज्जण न [निमज्जन] डूबना, जल-प्रवेश (सुपा ३५४) ।  
 गिमाणिअ देखो गिम्माणिअ = निर्मानित (भवि) ।  
 गिमि सक [नि + युज्] जोड़ना । गिमिइ (प्राकृ ६७) ।  
 गिमिअ वि [न्यस्त] स्थापित, तिहित (कुमा; से १, ४२; स ६, ७६०; सण) ।  
 गिमिअ वि [दे] आग्रात, सूँचा हुआ (पड) ।  
 गिमिण देखो गिम्माण = निर्माण (कम्म १, २५) ।  
 गिमिंत न [निमित्त] ? कारण, हेतु (प्रासू १०४) । २ कारण-विशेष, सहकारि-कारण

(सूत्र २, २) । ३ शास्त्र-विशेष, भविष्य आदि जानने का एक शास्त्र (श्रौप १६; भा ८) । ४ अतीन्द्रिय ज्ञान में कारण-भूत पदार्थ (ठा ८) । ५ जैन साधुओं की भिक्षा का एक दोष (ठा ३, ४) । °पिंड पुं [°पिण्ड] भविष्य आदि बतला कर प्राप्त की हुई भिक्षा (आचा २, १, ६) ।  
 गिमिंत्ति वि [निमिंत्तिन्] निमित्त-शास्त्र का जानकार (कुप्र ३७८) ।  
 गिमिंत्तिअ देखो गेमिंत्तिअ (सुपा ४०२) ।  
 गिमिल्ल सक [नि + मील] मील, मूँदना, आल मींचना । गिमिल्लइ (हे ४, २३२) ।  
 गिमिल्ल वि [निमीलित] जिसने नेत्र बंद किया हो, मुद्रित-नेत्र (से ६, ६१; ११, ५०) ।  
 गिमिल्लण देखो गिमिल्लण (राज) ।  
 गिमिस सक [नि + मिप्] आँख मूँदना । निमिसंति (तंदु ५३) ।  
 गिमिस पुं [निमिप] नेत्र-संकोच, अक्षि-मीलन, पलक नारने भर का समय (गा ३८५; सुपा २१६; गउड) ।  
 गिमिल्लण न [निमीलन] अक्षि-संकोच (गा ३६७; सूत्र १, ५, १, १२ टी) ।  
 गिमिल्लिअ वि [निमीलित] मुद्रित (नेत्र) (गा १३३; से ६, ८६; महा) ।  
 गिमिस न [निमिश्र] एक विद्यावर-नगर (इक) ।  
 गिमि सक [नि + मा] स्थापन करना । गिमिसि (गउड) ।  
 गिमिण न [दे] स्थान, जगह (दे ४, ३७) ।  
 गिमिल्ल वी [दे] दन्त-मांस (दे ४, ३०) । वी. °ला (दे ४, ३०) ।  
 गिमिस पुं [निमेष] निमीलन, अक्षि-संकोच, पलक का गिरना, पलक (धा १६; उव) ।  
 गिमिसि देखो गिने ।  
 गिमिसि वि [निमेषिन्] आँख मूँदनेवाला (सुपा ४४) ।  
 गिम्म सक [निर् + मा] बनाना, निर्माण करना । गिम्मइ (पड) । गिम्मइ (धम्म १२ टी) । क्वकृ. गिम्माअंत (नाट—मालती ५४) ।  
 गिम्म पुं [निम] जमीन से ऊँचा निकलता प्रदेश (साय २७) ।

गिम्मइअ वि [निर्मित] रचित, कृत (गा ५००; ६०० अ)।

गिम्मंथण न [निर्मथण] १ विनाश। २ वि. विनाशक; 'तह य पयट्टुत्तु सिग्घं-एत्यनिम्मंथणं त्तिथं' (सुपा ७१)।

गिम्मंस वि [निर्मांस] मांस-रहित, शुष्क (साया १, १; भग)।

गिम्मंसा छी [दे] देवी-विशेष, चाफुएज (दे ४, ३५)।

गिम्मंसु वि [दे. निःश्मश्रु] तक्षण, जवान, युवा (दे ४, ३२)।

गिम्मक्खिअ देवो गिम्मच्छिअ = निर्मलिक (नाट)।

गिम्मच्छ सक [नि + म्रक्ष] विलेपन करना। गिम्मच्छइ (भवि)।

गिम्मच्छण न [निम्रक्षण] विलेपन (भवि)।

गिम्मच्छर वि [निर्मात्सर्य] मात्सर्य-रहित, इर्ष्या-शून्य (उप पृ ८४)।

गिम्मच्छिय वि [निम्रक्षित] विलिप्त (भवि)।

गिम्मच्छिअ न [निर्माक्षिक] १ मज्जिका का अभाव। २ विजन, निर्जनता (अभि ६८)।

गिम्मवजाय वि [निर्मर्याद] मर्यादा-रहित, बेहया (दे १, १३३)।

गिम्मज्जिय वि [निर्माजित] उपलिप्त (स ७५)।

गिम्मण वि [निर्मनस्] मन-रहित (द्रव्य १२)।

गिम्मणुय वि [निर्मनुज] मनुष्य-रहित (सण)।

गिम्मद्दग वि [निर्मर्दक] १ निरन्तर मर्दन करनेवाला। २ पुं. चोरों की एक जाति (परह १, ३)।

गिम्मदिय वि [निर्मर्दित] जिसका मर्दन किया गया हो (परह १, ३)।

गिम्मम वि [निर्मम] १ ममता-रहित, निःस्वह (अञ्जु ६६; सुपा १४०)। २ पुं. भारत-वर्ष के एक भावी जिनदेव (सम १५४)।

गिम्मय वि [दे] गत, गया हुआ (दे ४, ३४)।

गिम्मल वि [निर्मल] मल-रहित, विशुद्ध (स्वप्न ७०; प्रासू १३१)। २ पुं. ब्रह्म-देव-लोक का एक प्रस्तर (ठा ६)।

गिम्मल न [निर्मात्य] देव का उच्छिष्ट द्रव्य, देवता पर चढ़ाई हुई वस्तु का बचा-बुचा (हे १, ३८; पड्)।

गिम्मव सक [निर् + मा] बनाना, रचना, करना। गिम्मवइ (हे ४, १६; पड्)।

कर्म. निम्माविज्जति (वजा १२२)।

गिम्मव सक [निर् + मापय] बनवाना, कराना (ठा ४, ४; कुमा)।

गिम्मवइत्तु वि [निर्मापयित्] बनवानेवाला (ठा ४; ४)।

गिम्मवण न [निर्माण] रचना, कृति (उप ६४८ टी; सुपा २३, ६५; ३०५)।

गिम्मवण न [निर्माण] बनवाना, कराना (कप्प)।

गिम्मविअ वि [निर्मित] बनाया हुआ, रचित (कुमा; गा १०१; सुर १६, ११)।

गिम्मविअ वि [निर्मापित] बनवाया हुआ (कुमा)।

गिम्मह सक [गम्] १ जाना, गमन करना। २ अक. फैलना। गिम्महइ (हे ४, १६२)।

वक्र. गिम्महंत, गिम्महमाण (से ७, ६३; १५, ५३; स १२६)।

गिम्मह पुं [निर्मथ] १ विनाश। २ वि. विनाशक (भवि)।

गिम्महण न [निर्मथण] १ विनाश। २ वि. विनाश-कारक (सुपा ७५) छी. ँणी (सुर १६, १८४)।

गिम्महिअ वि [गत] गया हुआ (कुमा)।

गिम्महिअ वि [निर्मथित] विनाशित (हेका ५०)।

गिम्मा देखो गिम्म। गिम्माइ (प्राक ६४)।

गिम्माअंत देखो गिम्म।

गिम्माइअ देखो गिम्माय (पि ५६१)।

गिम्माण सक [निर् + मा] बनाना, करना, रचना गिम्माणइ (हे ४, १६; पड्; प्राप्र)।

गिम्माण न [निर्माण] १ रचना, वनावट, कृति। २ कर्म-विशेष, शरीर के अंगोपांग के निर्माण में नियामक कर्म-विशेष (सम ६७)।

गिम्माण वि [निर्मान] मान-रहित (से ३, ४५)।

गिम्माणअ वि [निर्मायक] निर्माण-कर्ता, बनानेवाला (से ३, ४५)।

गिम्माणिअ वि [निर्मित] रचित, बनाया हुआ (कुमा)।

गिम्माणिअ वि [निर्मानित] अपमानित, तिरस्कृत (भवि)।

गिम्माणुस वि [निर्मानुप] मनुष्य-रहित (सुपा ४४४)। छी. ँसी (महा)।

गिम्माय वि [निर्मात] १ रचित, विहित, कृत (उव; पाग्र; वजा ३४)। २ निपुण, अम्यस्त, कुशल (श्रौप; कप्प); 'नाहियसत्थेसु निम्माया परिवाइया' (सुर १२, ४२)।

गिम्माय न [निर्माय] तप-विशेष, निर्वि-कृतिक तप (संवोव ५८)।

गिम्मालिअ देखो गिम्मल (प्राक १६)।

गिम्माव सक [निर् + मापय] बनवाना, करवाना। गिम्मावइ (सण)। क. गिम्मा-वित्त (सूत्र २, १, २२)।

गिम्माविय वि [निर्मापित] बनवाया हुआ, कारित, कराया हुआ (सुपा २६७)।

गिम्मिअ वि [निर्मित] रचित, बनाया हुआ (ठा ८; प्रासू १२७)। वाइ वि [वादिन्] जगत् को ईश्वरादि-कृत माननेवाला (ठा ८)।

गिम्मिरस वि [निर्मिश्र] १ मिला हुआ, मिश्रित। २ वल्ली छी [वल्ली] अत्यन्त नज-दीक का स्वजन, जैसे माता, पिता, भाई, भगिनी, पुत्र और पुत्री (वव १०)।

गिम्मोस वि [निर्मिश्र] मिश्रण-रहित (देवेन्द्र २६०)।

गिम्मोसुअ वि [दे] शमश्रु-रहित, दाढ़ी-मूँछ वर्जित (पड्)।

गिम्मुक वि [निर्मुक्त] मुक्त किया गया (सुपा १७३)।

गिम्मुकख पुं [निर्मोक्ष] मुक्ति, छुटकारा (विसे २४६८)।

गिम्मूल वि [निर्मूल] मूल-रहित, जिसका मूल काटा गया हो वह (सुपा ५३५)।

गिम्मेर वि [निर्मर्याद] मर्यादा-रहित, निर्लज (ठा ३, १; श्रौप; सुपा ६)।

गिम्मोअ पुं [निर्मोक] कञ्जुक, केंजुल, सर्प की त्वचा (हे २, १८२; भत्त ११०; से १, ६०)।

गिम्मोअणी छी [निर्मोचनी] कञ्जुक, निर्मोक (उत्त १४, ३५)।

गिम्मोडण न [निर्मोदन] विनाश (मै ६१) ।  
 गिम्मोहल वि [निर्मूल्य] मूल्य-रहित  
 (कुमा) ।  
 गिम्मोह वि [निर्मोह] मोह-रहित (कुमा;  
 आ १२) ।  
 गिरइ त्री [निर्ऋति] मूल-नक्षत्र का अग्नि-  
 घायक देव (ठा २, ३) ।  
 गिरइयार वि [निरित्तचार] अतिचार-रहित,  
 दूषण-वर्जित (सुपा १००) ।  
 गिरइसय वि [निरतिशय] अत्यन्त, सर्वा-  
 धिक (काल) ।  
 गिरईआर देखो गिरइयार (सुपा १००;  
 स्यण १८) ।  
 गिरंकुस वि [निरङ्कुरा] अंकुश-रहित, स्व-  
 च्छन्दी (कुमा; आ २८) ।  
 गिरंगण वि [निरङ्गण] निलेप, लेप-रहित  
 (श्रीप; उव; शाया १, ११—पत्र १७१) ।  
 गिरंगी वी [दे] सिर का अवगुण्डन, धूषट  
 (दे ४, ३१; २, २०) ।  
 गिरंजण वि [निरञ्जन] निलेप, लेप-रहित  
 (स ५८२; कप्प) ।  
 गिरंतय वि [निरन्तक] अन्त-रहित (उप  
 १०३१ टी) ।  
 गिरंतर वि [निरन्तर] अन्तर-रहित, व्यव-  
 धान-रहित (गउड; हे १, १४) ।  
 गिरंतराय वि [निरन्तराय] १ निर्विघ्न,  
 निवाध । २ व्यवधान-रहित, सतत; 'धम्मं  
 करेह विमलं च निरन्तरायं' (पउम ४४,  
 ६७) ।  
 गिरंतरिय वि [निरन्तरित] अन्तर-रहित,  
 व्यवधान-रहित (जीव ३) ।  
 गिरंध वि [नीरन्ध्र] छिद्र-रहित (वक्र ६७) ।  
 गिरंधर वि [निरन्धर] वक्र-रहित, नाम  
 (आवम) ।  
 गिरंभा वी [निरम्भा] एक इन्द्राणी, वैरोचन  
 इन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ५, १; इक) ।  
 गिरंस वि [निरंश] अंश-रहित, अखण्ड,  
 सम्पूर्ण (विसे) ।  
 गिरंहं वि [निरंहस्] निर्मल, पवित्र; 'मउयं  
 व वाहिसो सो निरंहसा तेण जलपवाहेण'  
 (वर्मवि १४६) ।

गिरक्क पुं [दे] १ चोर, स्तेन । २ घृष्ट,  
 पीठ । ३ वि. स्थित (दे ४, ४६) ।  
 गिरक्किय वि [निराकृत] अपाकृत, निरस्त  
 (उत्त ६, ५६) ।  
 गिरक्ख सक [निर् + ईच्छ्] निरीक्षण  
 करना, देखना । गिरक्खइ (हे ४, ४१८);  
 'तोवि ताव विट्ठीए गिरक्खिज्जा' (महा) ।  
 गिरक्खर वि [निरक्षर] सुख, ज्ञान-रहित  
 (कप्प; वज्जा १५८) ।  
 गिरगार वि [निराकार] आकार-रहित;  
 'निरगारपच्चत्वाणोवि अरहंताईणमुज्झिक्खा'  
 (संबोध ३८) ।  
 गिरगल वि [निरगल] १ क्वाबट से रहित  
 (सुपा १६२; ४७१) । २ स्वच्छन्दी, स्वैरी,  
 निरंकुश (पात्र) ।  
 गिरच्छण वि [निरर्चन] अर्चन-रहित  
 (उव) ।  
 गिरट्टु } वि [निरर्थ, क] १ निरर्थक,  
 गिरट्टुग } निष्प्रयोजन, निकम्मा (उत्त २०) ।  
 २ न. प्रयोजन का अभाव; 'गिरट्टुगन्मि  
 विरओ, मेहुणाओ सुसंबुडो' (उत्त २, ४२) ।  
 गिरण वि [निर्ऋण] ऋण-रहित, करज से  
 मुक्त (सुपा ५६३; ५६६) ।  
 गिरणास देखो गिरिणास = नय् । गिर-  
 णासइ (हे ४, १७८) ।  
 गिरणुकंप वि [निरनुकम्प] अनुकम्पा-रहित,  
 निर्दय (शाया १, २; वृह १) ।  
 गिरणुककोस वि [निरनुकोश] निर्दय,  
 दया-शून्य (शाया १, २; प्रासु ६८) ।  
 गिरणुताव वि [निरनुताप] परचात्ताप-रहित  
 (शाया १, २) ।  
 गिरणुतावि वि [निरनुतापिन्] परचात्ताप-  
 वर्जित (पव २७४) ।  
 गिरत्थ वि [निरस्त] अपास्त, निराकृत (वव  
 ८) ।  
 गिरत्थ } वि [निरर्थ, क] अर्थार्थक, निकम्मा,  
 गिरत्थग } निष्प्रयोजन (दे ४, १६; पउम  
 गिरत्थय ६५, ४; पणह १, २; उव; सं  
 ४१) ।  
 गिरन्नय पुं [निरन्वय] अन्वय-रहित (धर्मसं  
 ४६६) ।  
 गिरप्प अक [स्था] वैठना । गिरप्पइ (हे  
 ४, १६) । भुका. गिरप्पोअ (कुमा) ।

गिरप्प पुं [दे] १ घृष्ट, पीठ । २ वि. उद्दे-  
 षित (दे ४, ४६) ।  
 गिरप्पण वि [निरात्मीय] अस्वकीय, पर-  
 कीय (कुप्र ८६) ।  
 गिरभिग्गह वि [निरभिग्रह] अभिग्रह-रहित  
 (आव ६) ।  
 गिरभिराम वि [निरभिराम] यमुन्दर,  
 अन्तः (पणह १; ३) ।  
 गिरभिलप्प वि [निरभिलाप्य] अनिर्वच-  
 नोय, वाणी से बतलाने को अशक्य (विसे  
 ४८८) ।  
 गिरभिस्संग वि [निरभिप्पङ्ग] आसक्ति-  
 रहित, निःस्पृह (पंचा २, ६) ।  
 गिरय पुं [निरय] १ नरक, पाप-भोग-न्वान  
 (ठा ४, १; आचा; सुपा १४०) । २ नरक-  
 स्थित जीव, नारक (ठा १०) । ३ पाल पुं  
 [पाल] देव-विशेष (ठा ४, १) । ४ वलिया  
 वी [वलिका] १ जैन आगम-ग्रन्थ विशेष  
 (निर १, १) । २ नरक-विशेष (पणण २) ।  
 गिरय वि [निरत] असक्त, तत्पर, तल्लीन  
 (उप ६७६; उव; सुपा २६) ।  
 गिरय वि [नीरजस्] रजो-रहित, निर्मल  
 (भग; गा ८७८) ।  
 गिरय सक [युमुक्ष] खाने की इच्छा करना ।  
 गिरवइ (पड) ।  
 गिरय सक [आ + क्षिप] आक्षेप करना ।  
 गिरवइ (पड) ।  
 गिरवइक्ख वि [निरपेक्ष] अपेक्षा-रहित,  
 निरीह, निःस्पृह (विसे ७ टी) ।  
 गिरवकंख वि [निरवकाङ्क्ष] स्पृहा-रहित,  
 निःस्पृह (श्रीप) ।  
 गिरवकंखि वि [निरवकाङ्क्षिन्] निःस्पृह  
 (शाया १, ६) ।  
 गिरवगाह वि [निरवगाह] अवगाहन-रहित  
 (पड) ।  
 गिरवग्गह वि [निरवग्रह] निरंकुश, स्व-  
 च्छन्दी, स्वैरी (पात्र) ।  
 गिरवच्च वि [निरपत्य] अपत्य-रहित, निःसंतान  
 (भग; सम १५०) ।  
 गिरवज्ज वि [निरवद्य] निर्दोष, विशुद्ध (वस  
 ५, १; सुर ८, १८३) ।

गिरवणाम देखो गिरोणाम (उव) ।  
 गिरवयक्ख देखो गिरवइक्ख (गाया १, ६; पउम २, ६३) ।  
 गिरवयव वि [ गिरवयव ] अवयव-रहित, निरंश (विसे) ।  
 गिरवयास वि [ गिरवकारा ] अवकाश-रहित (गडड) ।  
 गिरवराह वि [ गिरपराध ] अपराध-रहित, वेगुनाह (महा) ।  
 गिरवराहि वि [ गिरपराधिन् ] ऊपर देखो (आव ६) ।  
 गिरवलंब वि [ गिरवलम्ब ] सहारा रहित, असहाय (परह १, ३) ।  
 गिरवलाव वि [ गिरपलाप ] १ अपलाप-रहित । गुप्त बात को प्रकट नहीं करनेवाला, दूसरे को नहीं कहनेवाला (सम ५७) ।  
 गिरवसंक्र वि [ गिरपशाङ्क ] दुःसंका-वञ्जित (भवि) ।  
 गिरवसर वि [ गिरवसर ] अवसर-रहित (गडड) ।  
 गिरवसाण वि [ गिरवसान ] अन्त-रहित (गडड) ।  
 गिरवसेस वि [ गिरवशेष ] सब, सकल (हे १, १४; पउ; से १, ३७) ।  
 गिरवहं सक [ गिर + वह ] निर्वाह करना, निवाहना । निरवहेजा (संघोष ३६) ।  
 गिरवाय वि [ गिरपाय ] १ उपद्रव-रहित, विघ्न-वञ्जित । २ निर्दोष, विशुद्ध (आ १६; सुपा २७५) ।  
 गिरविक्ख देखो गिरवइक्ख (आ ६; उव; गिरवेक्ख } पि ३४१; से ६, ७५; सूअ }  
 गिरवेच्छ १, ६; पंचा ४; निवू २०; नाट—नैत २५७) ।  
 गिरस सक [ गिर + अस ] अपास्त करना । गिरसइ (सणु) ।  
 गिरसण वि [ गिरशन ] आहार-रहित, उपोषित (उप; सुपा १५१) ।  
 गिरसण न [ गिरसन ] निराकरण, हटा देना, दूर करना, खंडन (वेइय ७२४) ।  
 गिरसि वि [ गिरसि ] खड्ग-रहित (गडड) ।

गिरसिअ वि [ गिरस्त ] परास्त, अपास्त (दे ५, ५६) ।  
 गिरस्साय वि [ गिरस्साद ] स्वाद-रहित (उत्त १६, ३७) ।  
 गिरस्सावि वि [ गिरस्साविन् ] नहीं टपकने-वाला, छिद्र रहित । लो. °णी (उत्त २३, ७१; सुख २३, ७१) ।  
 गिरहंकार वि [ गिरहंकार ] गर्व-रहित (उव) ।  
 गिरहारि वि [ गिरहारिन् ] आहार-रहित, उपोषित; 'हवउ व वक्कलघारी, गिरहारी वंमचेरवयवारी' (सुपा २५२) ।  
 गिरहिगारण वि [ गिरधिकरण ] अधिकरण-रहित, हिंसा-रहित, निर्दोष (पंचा १६) ।  
 गिरहिगारणि वि [ गिरधिकरणिन् ] ऊपर देखो (भग १६, १) ।  
 गिरहिलास वि [ गिरभिलाप ] इच्छा-रहित, निरीह (गडड) ।  
 गिरहेउ वि [ गिरहेतु, °क ] निष्कारण, गिरहेउग } कारणरहित (धर्मसं ४४३; गिरहेतुग } ४१७; ४००) ।  
 गिराइअ वि [ गिरायत ] लम्बा किया हुआ, विस्तारित (से ४, ५२; ७, ३६) ।  
 गिराउस वि [ गिरायुप् ] आयु-रहित (प्राक् ३१) ।  
 गिराउह वि [ गिरायुध ] आयुध-वञ्जित, निःशस्त्र (महा) ।  
 गिराकर } सक [ गिरा + कृ ] १ निषेध गिरागर } करना । २ दूर करना, हटाना । ३ विवाद का फैसला करना । गिराकरिमो (कुय २१५) । संक्र. गिराकिच्च (सूअ १, १, १; ३, ३; १, ११) ।  
 गिराकरिअ वि [ गिराकृत ] निषिद्ध (धर्मवि १४६) ।  
 गिरागरण न [ गिराकरण ] निरास, निवारण, निषेध, रोक (पंचा १७, १६) ।  
 गिरागरण न [ गिराकरण ] १ निषेध, प्रतिषेध (पंचा १७) । २ फैसला, निपटारा (स ४०६) ।  
 गिरागरिय वि [ गिराकृत ] हटाया हुआ, दूर किया हुआ (पउम ४६, ५१; ६१, ५६) ।  
 गिरागस वि [ गिराकर्ष ] निर्धन, रंक (निवू २) ।

गिरागार वि [ गिराकार ] १ आकृति-रहित २ अपवाद-रहित (धर्म २) ।  
 गिराणंद वि [ गिरानन्द ] आनन्द-रहित, शोकांतुर (महा) ।  
 गिराणिउ (अप) अ. निश्चित, नकी (कुमा) ।  
 गिराणुकंप देखो गिरणुकंप: 'गिक्किवणिराणुं-कंपो आसुरियं भावणं कुणइ' (ठा; ४, ४), 'अह सो गिराणु कंपो (संया ५४; पउम २६, २५) ।  
 गिराणुवत्ति वि [ गिरणुवर्तिन् ] १ अनुसरण नहीं करनेवाला । २ सेवा नहीं करनेवाला (उव) ।  
 गिराद वि [ दे ] नष्ट, विनाश-प्राप्त (दे ४, ३०) ।  
 गिरावाध } वि [ गिरावाध ] आवाधा-रहित, गिरावाह } हरकत-रहित (अभि १११; सुपा २५३; ठा १० आव ४) ।  
 गिरामगंध वि [ गिरामगन्ध ] दूषण-रहित, निर्दोष चारित्र्यवाला (आचा; सूअ १, ६) ।  
 गिरामय वि [ गिरामयं ] रोग-रहित, नीरोग (सुपा ५७५) ।  
 गिरामिस वि [ गिरामिप ] आसक्तिहीन, निरीह, निरभिप्यङ्ग; 'आमिसं सव्वमुष्कित्ता विहरिस्सामो गिरामिसा' (उत्त १४, ४६) ।  
 गिराय वि [ दे ] १ ऋजु, सरल । (दे ४, ५०; पाअ) । १ प्रकट, खुला । ३ पुं. रियु, शत्रु (दे ४, ५०) । ४ वि. लम्बा किया हुआ (से २, ५०) ।  
 गिराय वि [ दे ] अत्यन्त, प्रचुर, अधिक (सुख २, ७) ।  
 गिरायंक वि [ गिरातङ्क ] आतङ्क-रहित, नीरोग (औप) ।  
 गिरायरिय देखो गिरागरिय (पउम ६१, ४६) ।  
 गिरायव वि [ गिरातप ] आतप-रहित (गडड) ।  
 गिरायार देखो गिरागार (पउम ६, ११५) ।  
 गिरायास वि [ गिरायास ] परिश्रम-रहित (परह २, ४) ।  
 गिरारंभ वि [ गिरारम्भ ] आरम्भ-वञ्जित (सुपा १४०; गडड) ।  
 गिरालंब वि [ गिरालम्ब ] आलम्ब-रहित (गा ६५; आरा ५) ।



गिरालंघण वि [निरालम्बन] आलम्बन-रहित (श्रौष; शाया १, ६) ।  
 गिरालंघण वि [निरालम्बन] आशंसा-रहित, संशय-रहित, प्रायणा-रहित, इच्छा-रहित, अनुमान-रहित (आचा २, १६, १२) ।  
 गिरालय वि [निरालय] स्वान-रहित, एकत्र स्थिति नहीं करनेवाला (श्रौष) ।  
 गिरालोच वि [निरालोक] प्रकाश-रहित, (निर १, १) ।  
 गिरायकंठि वि [निरयकाडिक्षन्] आकांक्षा-रहित, निःस्पृह (सूत्र १, १०) ।  
 गिराययदस्त्र वि [निरपेक्ष] अपेक्षा-रहित, निरोह (शाया १, १; ६; भक्त १४८) ।  
 गिरावरण वि [निरावरण] १ प्रतिबन्धक-रहित (श्रौष) । २ नग्न (सुर १४, १७८) ।  
 गिरावराह वि [निरपराध] अपराध-रहित (सुपा ४२३) ।  
 गिराविकस्य ) देखो गिराययदस्त्र; 'विसपसु गिराविकस्य ) गिराविकसा तरति संसार-कंतारं' (भक्त ४६; पञ्चम ६, ९; १००, ११) ।  
 गिरास वि [निराश] १ आशा-रहित, हताश (पञ्चम ४४, ५६; दे ४, ४८; संज्ञि १६) । २ न. आशा का अभाव (परह १, ३) ।  
 गिरास वि [दे] नृसंघ, क्रूर (पङ्) ।  
 गिरासंस वि [निराशंस] आकांक्षा-रहित, निरोह (सुपा ६२१) ।  
 गिरासय वि [निराश्रय] निराधार (वज्जा १५२) ।  
 गिरासय वि [निराश्रय] आश्रय-रहित, कर्म-बन्धन के कारणों से रहित (परह २, ३) ।  
 गिरासस देखो गिरासंस (आचा २, १६, ६) ।  
 गिराह वि [दे] निदंय, निष्कल्प (दे ४, ३७) ।  
 गिरिअ वि [दे] अवशेषित, बाकी रखा हुआ (दे ४, ४८) ।  
 गिरिइ देखो गिरइ (सुज्ज १०, १२) ।  
 गिरिक वि [दे] नत्त, नमा हुआ (दे ४, ३०) ।  
 गिरिगी [दे] देखो गीरंगी (गड्ड) ।  
 गिरिघण वि [निरिन्धन] इन्धन-रहित (भग ७, १) ।  
 गिरिक्ख सक [निर + ईक्ष्] देखना, अवलोकन करना । गिरिक्खइ, गिरिक्खए

(सण; महा) । बह, गिरिक्खंन, गिरि-क्खमाण (सण; उप २११ टी) । संक, गिरिक्खऊण (सण) । छ, गिरिक्ख-णिउज (कप्पु) ।  
 गिरिक्खण न [निरिक्षण] अवलोकन (गा १५०) ।  
 गिरिक्खणा को [निरिक्षणा] अवलोकन, प्रतिलेखना (श्रौष ३) ।  
 गिरिक्खअ वि [निरिक्षित] आलोकित, दृष्ट (कप्पु; पञ्चम ४८, ४८) ।  
 गिरिग्घ सक [नि + ली] १ आश्लेष करना, आत्तिगत करना । २ अक. छिपना । गिरिग्घइ (हे ४, ५५) ।  
 गिरिग्घिअ वि [निलीन] आच्छिष्ट, आलिनित (कुमा) ।  
 गिरिण वि [निर्घृण] ऋण-मुक्त, उच्छ्रय (ठा ३, १; टी—पत्र १२०) ।  
 गिरिणास सक [गम्] गमन करना । गिरिणासइ (हे ४, १६२) ।  
 गिरिणास सक [पिप्] पीसना । गिरिणासइ (हे ४, १८५) ।  
 गिरिणास अक [नरा] पलायन करना । भागना । गिरिणासइ (हे ४, १७८; कुमा) ।  
 गिरिणासिअ वि [गत] गया हुआ, यात (कुमा) ।  
 गिरिणासिअ वि [पिष्ट] पीसा हुआ (कुमा) ।  
 गिरिणिज्ज सक [पिप्] पीसना । गिरि-णिज्जइ (हे ४, १८५) ।  
 गिरिणिज्जिअ वि [पिष्ट] पीसा हुआ (कुमा) ।  
 गिरिन्ति को [निरिति] एक रात्रि का नाम (कप्प) ।  
 गिरीह वि [निरिह] निष्काम, निःस्पृह (कुमा; ४२१) ।  
 गिरु (अप) अ. निश्चित, नक्की (हे ४, ३४४; सुपा ८६; सण; भवि) ।  
 गिरुअ देखो गिरुज (विसे १५८५; सुपा ४४६) ।  
 गिरुकय [निरुईजीकृत] नीरोग किया गया (उप ५६७ टी) ।  
 गिरुंभ सक [नि + रुध्] निरोध करना । गिरुंभइ (श्रौष) । कवक, गिरुंभमाण, गिरुंभंत (स ५३१; महा) । संक, गिरुं-

भइत्ता (सूत्र १, ४, २) । छ, गिरुंभियव्व, गिरुंभियव्व (सुपा ४०४; विसे ३०८१) ।  
 गिरुंभण न [निरोधन] अट्टान, रक्कायट (सूत्र १, ५; भवि) ।  
 गिरुंठ वि [निरुंठ] उदक्या-रहित, निरुसाह (नाट) ।  
 गिरुंथ देखो गिरिग्घ । गिरुंथइ (पङ्) ।  
 गिरुंथार वि [निरुंथार] १ उथार—पुरो-पोतन के लिए लोगों के निर्गमन से कथित (शाया १, ८—पत्र १४६) । २ पालाना जाने से जो रोका गया हो (परह १, ३) ।  
 गिरुंथय वि [निरुंथय] उन्मय-रहित (अग्नि १८६) ।  
 गिरुंथ्याइ वि [निरुंथ्याइ] उन्माह-हीन (से १४, ३५) ।  
 गिरुंज वि [निरुंज] १ रोग-रहित । २ न. रोग का अभाव । 'सिल न [शिल] एक प्रकार की तथियों (पत्र २०१) ।  
 गिरुंजम वि [निरुंजम] उन्मय-रहित, आलसो (उव; स ३१०, सुपा ३८४) ।  
 गिरुंटाइ वि [निरुंथायिन्] नहीं उठनेवाला (उत्त १; ३०) ।  
 गिरुत्त वि [निरुत्त] १ उक्त, कथित (सत्त ७१) । २ न. निश्चित उक्ति (अणु) । ३ व्युत्पत्ति । (विसे २; ६६३) । ४ वेदाङ्ग शास्त्र-विशेष; जिसमें वैदिक शब्दों की व्याख्या है (श्रौष) ।  
 गिरुत्त वि [निरुत्त] १ अनुक्त अकथित, इष्टान्त 'किन्तु निरुत्तो भाषो परस्स नचइ क्वचित्तेणं' (सिरि ८४६) । २ व्युत्पत्ति-मुक्त (सिरि ३१) ।  
 गिरुत्त वि [दे] १ निश्चित, नक्की, चोक्कस (दे ४, ३०; पञ्चम ३५, ३२; कुमा; सण; भवि), 'तहवि हु मरइ निरुत्तं पुरिजो संपत्थिए काले' (पञ्चम ११, ६१) । २ वि. निश्चित, चिन्ता-रहित (कुमा) ।  
 गिरुत्तत्त वि [निरुत्तत्त] विशेष ताप-मुक्त, संतप्त (उव) ।  
 गिरुत्तम वि [निरुत्तम] अत्यन्त श्रेष्ठ (काल) ।  
 गिरुत्तर वि [निरुत्तर] उत्तर-रहित किया हुआ, परात्त (सुर १२, ६६) ।  
 गिरुत्ति को [निरुत्ति] व्युत्पत्ति (विसे ६६२) ।

गिरुत्तिअ वि [नैरुत्तिक] व्युत्पत्ति के अनुसार जिसका अर्थ किया जाय वह शब्द (अणु) ।

गिरुत्तिय न [नैरुत्तिक] निर्लक्षित, व्युत्पत्ति; 'नो कत्ववि नाणित्ति निर्लक्षितं वेदसदस्स' (संबोध—२२) ।

गिरुदर वि [निरुदर] छोटा पेटवाला, अनुदर । व्री. °रा (परह १, ४) ।

गिरुद्ध वि [निरुद्ध] १. रोकना हुआ (शाया १, १) । २. आवृत, आच्छादित (सुय १, २, ३) । ३. पुं. मत्स्य की एक जाति (कप्प) ।

गिरुद्ध वि [निरुद्ध] थोड़ा, संक्षिप्त (सुय १, १४, २३) ।

गिरुद्धव्य } देखो गिरुंभ ।  
गिरुंभंत }

गिरुलि पुंघो [दे] कुम्भीर—नरु की आकृति-वाला एक जन्तु (दे ४, २७) ।

गिरुवकिट्टु देखो गिरुवकिट्टु (भग) ।

गिरुवक्रम वि [निरुपक्रम] १. जो कम न किया जा सके वह (आणुष्य) (सुर २, १३२; सुपा २०४) । २. विघ्नरहित, अबाध, 'निय-निवृत्तकमविक्रमग्रक्तसमंगरिउचको' (सुपा ३६) ।

गिरुवकय वि [दे] अकृत, नहीं किया हुआ (दे ४, ४१) ।

गिरुवकिट्टु वि [निरुपक्लिष्ट] क्लेश-वर्जित, दुःखरहित (भग २५, ७) ।

गिरुवककेस वि [निरुपक्लेश] शोक आदि क्लेशों से रहित (ठा ७) ।

गिरुवकख वि [निरुपाय] शब्द से न कहा जा सके वह, अनिर्वचनीय (धर्मसं २४१; १३००) ।

गिरुवग वि [निरुपक] प्रतिपादक (सम्मत्त १६०) ।

गिरुवगारि वि [निरुपकारिन्] उपकार को नहीं माननेवाला, प्रत्युपकार नहीं करनेवाला (आवम) ।

गिरुवगह वि [निरुपग्रह] उपकार नहीं करनेवाला (ठा ४, ३) ।

गिरुवट्टाणि वि [निरुपस्थानिन्] निरुद्यमी, आलसी (आचा) ।

गिरुवद्वय वि [निरुपद्रव] उपद्रव-रहित, आबाधा-वर्जित (श्रीप) ।

गिरुवम वि [निरुपम] असमान, असाधारण (श्रीप; महा) ।

गिरुवयरिय वि [निरुपचरित] वास्तविक, तथ्य (शाया १, ५) ।

गिरुवयार वि [निरुपकार] उपकार-रहित (उव) ।

गिरुवलेव वि [निरुपलेप] लेप-वर्जित, अ-लक्षित (कप्प); 'रयणमिव गिरुवलेवा' (पउम १४, ६४) ।

गिरुवसग्ग वि [निरुपसर्ग] १. उपसर्ग-रहित, उपद्रव-वर्जित (सुपा २८७) । २. पुं. मोक्ष, मुक्ति (पडि; धर्म २) । ३. न. उपसर्ग का अभाव (वव ३) ।

गिरुवहय वि [निरुपहत] १. उपघात-रहित, अक्षत (भग ७, १) । २. रूकावट से शून्य, अप्रतिहत (सुपा २६८) ।

गिरुवहि वि [निरुपधि] माया-रहित, निष्कपट (दसनि १) ।

गिरुवार सक [ग्रह] ग्रहण करना । गिरु-वारइ (हे ४, २०६) ।

गिरुवारिअ वि [गृहीत] उपात्त, गृहीत (कुमा) ।

गिरुवालंभ वि [निरुपालम्भ] उपालम्भ-शून्य (गडड) ।

गिरुव्विग्ग वि [निरुद्विग्ग] उद्वेग-रहित (शाया १, १—पत्र ६) ।

गिरुस्साह वि [निरुस्साह] उत्साह-हीन (सुय १, ४, १) ।

गिरुव सक [नि + रूपय] १. विचार कर कहना । २. विवेचन करना । ३. देखना । ४. दिखलाना । ५. तलाश करना । निख्वेइ (महा) । वड्ड. गिरुवित्त, निरुवमाण (सुर १५, २०५; कुप्र २७५) । संक.

गिरुविऊण (पंचा ८) । क. गिरुवियव्व (पंचा ११) । हेक. निरुविउं (कुप्र २०८) ।

गिरुवण न [निरुपण] १. विलोकन, निरीक्षण (उप ३३७) । २. वि. दिखलानेवाला व्री. °णी (पउम ११, २२) ।

गिरुवणया व्री [निरुपणा] निष्पण (उप ६३०) ।

गिरुवाविअ वि [निरुपित] गवेपित, जिस की खोज कराई गई हो वह (स ५३६; ७४२) ।

गिरुविअ वि [निरुपित] १. देखा हुआ (से १३, १३; सुपा ५२३) । २. आलोचना कर कहा हुआ । ३. विवेचित, प्रतिपादित (हे २, ४०) । ४. दिखलाया हुआ । ५. गवेपित (प्राह) ।

गिरुसुअ वि [निरुसुक] उक्कएठा-रहित (गडड) ।

गिरुह पुं [निरुह] अनुवासना-विशेष, एक तरह का विरेचन (शाया १, १३) ।

गिरेय वि [निरैजस्] निष्कम्प, स्थिर (भग २५, ४) ।

गिरेयण वि [निरैजन] निश्चल, स्थिर (कप्प; श्रीप) ।

गिरोणाम पुं [निरवनाम] नम्रता-रहित, गर्वित, उद्वत (उव) ।

गिरोय वि [निरोग] रोग-रहित (श्रीप; शाया १, १) ।

गिरोव पुं [दे] आदेश, आज्ञा, रूका (सुपा २२४) ।

गिरोवयार वि [निरुपकार] उपकार को नहीं माननेवाला (श्रीप ११३ भा) ।

गिरोवयारि वि [निरुपकारिन्] ऊपर देखो (उव) ।

गिरोविअ देखो गिरुविअ (सुपा ४५६; महा) ।

गिरोह पुं [निरोध] रूकावट, रोकना (ठा ४, १; श्रीप; पात्र) ।

गिरोहग वि [निरोधक] रोकनेवाला (रंभा) ।

गिरोहण न [निरोधन] रूकावट (परह १, १) ।

गिलंक पुं [दे] पतद्रह, पीकदान, घीवन-पात्र, धूकने का पात्र (दे ४, ३१) ।

गिलय पुं [निलय] घर, स्थान, आश्रय (से २, २; गा ४२१; पात्र) ।

गिलयण न [निलयन] वसति, स्थान (विसे) ।

गिलाड न [लयाट] भाल, कपाल (कुमा) ।

गिलिअ देखो गिलीअ । गिलिअइ (पड) ।

गिलित नीचे देखो ।

गिलिज्ज } सक [नी + ली] १. आरलेप करना, गिलीअ } मटना, गले से लगाना । २. दूर करना । ३. अक. छिप जाना । गिलिज्जइ गिली-अइ (हे ४, ५५) । गिलिज्जा (कप्प) । वड्ड.

गिलित, गिलिजमाण, गिलीअंत, गिली-  
अमाण (कम्प; सूत्र २, २; कुमा; उप ४७४)।  
गिलीइर वि [निलेत्] आश्लेष करनेवाला,  
भँठनेवाला (कुमा)।  
गिलुक देखो गिलीअ । गिलुकइ (हे ४,  
५५, पड्) । वक्. गिलुकंत (कुमा)।  
गिलुक सक [तुड्] तोड़ना । गिलुकइ  
(हे ४, ११६)।  
गिलुक वि [दे, निलीन] १ निलीन, खूब  
छिपा हुआ, प्रच्छन्न, गुप्त, तिरोहित (गाया  
१, ८; से १५, २; गा ६४; सुर ६, ५; उवः  
सुपा ६४०)। २ लीन, आसक्त (विवे ६०)।  
गिलुकण न [निलयन] छिपना (कुप्र २५२)।  
गिलुक [दे] देखो गिलंक (दे ४, ३१)।  
गिलुकण न [निलञ्चन] शरीर के किसी  
अवयव का छेदन (उवा; पडि)।  
गिलुक देखो गेलुक (पि ६६)।  
गिलुकण वि [निलक्षण] १ मूर्ख, बेवकूफ  
(उप ७६७ टी)। २ अपलक्षणवाला, खराब  
(आ १२)।  
गिलुक वि [निलज्ज] लज्जा-रहित (हे २,  
१६७; २००)।  
गिलुकम पुंओ [निलज्जिमन्] निलज्जपन,  
वेशरमी (हे १, ३५)। ली. मा (हे १,  
३५)।  
गिलुक अक [उत् + लस्] उल्लसना,  
विकसना । गिलुकइ (हे ४, २०२)।  
गिलुकसिज वि [उल्लसित] उल्लास-युक्त,  
विकसित (कुमा)।  
गिलुकसिअ वि [दे] निगंत, निःसृत, नियांत  
(दे ४, ३६)।  
गिलुकलिअ वि [निल्लित] निःसारित,  
बाहर निकाला हुआ (गाया १, १; ८—  
पत्र १३३; सुर १२, २३५; महा)।  
गिलुक सक [निर + लिख्] धिसना ।  
गिलुकहिज्जा (आचा २, ३, २, ३)।  
गिलुक सक [मुच्] छोड़ना, त्याग  
करना । गिलुकइ (हे ४, ६१)।  
गिलुकहिअ वि [मुक्त] त्यक्त, छोड़ा हुआ  
(कुमा)।  
गिलुक वि [निल्लित] विनाशित (विक्र २५)।

गिलुक सक [छिद्] छेदन करना, काटना ।  
गिलुकइ (हे ४, १२४)। गिलुकइ (आचा  
६८)।  
गिलुकण न [छेदन] छेद, विच्छेद (कुमा)।  
गिलुकुरिय वि [छिन्न] काटा हुआ,  
विच्छिन्न; 'आवत्तविदुमाहयनिल्लुरियदविय-  
संखल्लं' (पउम ८, २५८)।  
गिलुक वि [निल्लेप] लेप-रहित (विते ३०८३)।  
गिलुक पुं [निल्लेपक] रजक, घोवो (आच  
४)।  
गिलुकण न [निल्लेपन] १ मल को दूर करना  
(वव १)। २ वि. निल्लेप, लेप-रहित (शोध  
१६ भा)। ३ काल पुं [काल] वह काल,  
जिस समय नरक में एक भी नारक जीव न  
हो (भग)।  
गिलुक वि [निल्लेपित] १ लेप-रहित  
किया हुआ । २ विलकुल खूट गया हुआ  
(भग)।  
गिलुकण न [निल्लेखन] उद्वत्तन, पंछना  
(आचा २, ३; २)।  
गिलुक } वि [निल्लेभ] लोभ-रहित, अ-  
गिलुक } बुद्ध (सुपा ३६१; आ १३;  
भवि)।  
गिलुक पुं [नृप] राजा, नरेश (कुमा; खण  
४७)। १ तणय वि [संखण्विन्] राज-  
संखण्वी, राजकीय (सुपा ५३६)।  
गिलुक पुं [नृपति] ऊपर देखो (ठा ३, १,  
पउम ३०, ६)। १ मग पुं [मार्ग] राज-  
मार्ग, जाहिर रास्ता (पउम ७६; १६)।  
गिलुक वि [निपतित] १ नीचे गिरा हुआ  
(गाया १, ७)। २ एक प्रकार का विप  
(ठा ४, ४)।  
गिलुक वि [निपतित] नीचे गिरनेवाला  
(ठा ४, ४)।  
गिलुकण न [दे] अवतारण, उतारना (दे  
४, ४०)।  
गिलुक अक [निर + पन्] निष्पन्न होना,  
नीपजना, बनना । गिलुकइ (पड्)।  
गिलुक अक [नि + सद] वैठना । गिलुकसु  
(स ५०६)। वक्. गिलुकमाण (स ५०३)।  
प्रयो. गिलुकवेइ (निर १, १)।

गिलुक अक [नि + सद] सोना । गिलुकइ  
(उत् २७, ५)।  
गिलुक सक [नि + वर्तय्] निवृत्त करना ।  
गिलुकण (सूत्र १, १०, २१)।  
गिलुक अक [नि + वृत्] १ निवृत्त होना,  
लौटना, हटना । २ रुकना । वक्. गिलुकंत  
(सुपा १६२)।  
गिलुक वि [निवृत्त] १ निवृत्त, हटा हुआ,  
प्रवृत्ति-विमुक्त । २ न. निवृत्ति (हे ४, ३३२)।  
गिलुकण न [निवर्तन] १ निवृत्ति, प्रवृत्ति-  
निरोध । २ जहाँ रास्ता बन्द होता हो वह  
स्थान (गाया १, २—पत्र ७६)।  
गिलुक वि [निर्वर्तित] पका हुआ, फलित,  
सिद्ध (आचा २, ४, २, ३)।  
गिलुक अक [नि + पत्] नीचे प्रड़ना,  
नीचे गिरना । गिलुकइ (उव; पड्;  
महा)। वक्. गिलुकंत, गिलुकमाण (गा  
३४; सुर ३, १२७)। संक. गिलुकडिऊण,  
गिलुकडिअ (दंस ३; महा)।  
गिलुकण न [निपतन] अवःपतन (राज)।  
गिलुकडिअ वि [निपतित] नीचे गिरा हुआ  
(से १४, ३४; गा २३४; उप पृ २६)।  
गिलुकडिअ वि [निपतित] नीचे गिरनेवाला  
(सुपा ४६; सण)।  
गिलुकण वि [निपण] १ वैठा हुआ (महा;  
संया ६५; ७३)। २ पुं. कायोत्सर्ग-विशेष,  
जिसमें धर्म आदि किसी प्रकार का ध्यान न  
किया जाता हो वह कायोत्सर्ग (आव ५)।  
१ गिलुकण पुं [निपण] जिसमें आर्त और  
रौद्र ध्यान किया जाय वह कायोत्सर्ग (आव  
५)।  
गिलुकणुत्तिसय पुं [निपणोत्सुत्] कायोत्सर्ग-  
विशेष, जिसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान  
किया जाता हो वह कायोत्सर्ग (आव ५)।  
गिलुक देखो गिलुक = नि + वृत् । वक्.  
गिलुकमाण (वव १)। क. गिलुकणीअ  
(नाट—शुक १०८)। प्रयो. गिलुकवेमि  
(पि ५५२)।  
गिलुक देखो गिलुक = निवृत्त (पड्; कम्प)।  
गिलुकण देखो गिलुकण (महा; हे २, ३०;  
कुमा)।

गिवत्तय वि [निवत्तक] १ वापस आने-  
वाला, लौटनेवाला । २ लौटानेवाला, वापस  
करनेवाला (हे २, ३०; प्राप्र) ।

गिवत्ति व्ही [निवृत्ति] निवर्त्तन (उव) ।

गिवत्तिअ वि [निवत्तित] रोका हुआ, प्रति-  
षिद्ध (स ३६४) ।

गिवत्तिअ वि [निर्वत्तित] निष्पादित, 'निव-  
त्तिया सवपूया' (स ७६३) ।

गिवहि देखो गिवत्ति (संज्ञि ६) ।

गिवन्न देखो गिवण्ण (स ७६०) ।

गिवय अक [नि + पत्] समाना, अन्तर्भूत  
होना । निवयांत (पव ८४ टी) ।

गिवय देखो गिवड । गिवइजा, गिवएजा  
(कप्प; ठा ३, ४) । वक्क. गिवयंत, गिवयमाण  
(उव १४२ टी; सुर ४, ६५; कप्प) ।

गिवय पुं [निपात] नीचे गिरना, अघः-पतन  
(सुर १३, १६७) ।

गिवरण पुं [निवरुण] वृत्त-विशेष (उव  
१०३१ टी) ।

गिवस अक [नि + वस्] निवास करना,  
रहना । गिवसइ (महा) । वक्क. गिवसंत  
(सुपा २२५) । हेक्क. गिवसिउं (सुपा  
४६३) ।

गिवसण न [निवसन] वक्क, कपड़ा (अभि  
१३६; महा; सुपा २००) ।

गिवसिय वि [निवासित] जिसने निवास  
किया हो वह (महा) ।

गिवसिर वि [निवासित्] निवास करनेवाला  
(गडड) ।

गिवह सक [गम्] जाना, गमन करना ।  
गिवहइ (हे ४, १६२) ।

गिवह अक [नश] भागना, पलायन करना ।  
गिवहइ (हे ४, १७८) ।

गिवह सक [पिप्] पीसना । गिवहइ (हे  
४, १८५; पड) ।

गिवह पुंन [निवह] समूह, राशि, जल्था (से  
२, ४२; सुर ३, ३५; प्रासू १४४); 'अच्छड  
ता फलनिवहं' (वजा १५२) ।

गिवह पुंन [दे] समृद्धि, वैभव (दे ४, २६) ।

गिवहिअ वि [नष्ट] नाश-प्राप्त (कुमा) ।

गिवहिअ वि [पिष्ट] पीसा हुआ (कुमा) ।

गिवाइ वि [निपातिन्] गिरनेवाला (आचा) ।

गिवाइ सक [नि + पातय] नीचे गिरना ।  
निवाडेइ (स ६६०) । वक्क. निवाडयंत (स  
६८६) । संक. गिवाडेइत्ता (जोव ३) ।

गिवाडिय वि [निपातित] नीचे गिराया हुआ  
(महा) ।

गिवाडिर वि [निपातयित्] नीचे गिराने-  
वाला (सण) ।

गिवाग न [निपान] कूप या तालाब के पास  
पशुओं के जल पीने के लिए बनाया हुआ  
जल-कुएड, चरही (स ३१२) । °साला व्ही  
[°शाला] पशुओं का पानी पिलाने का स्थान  
(महा) ।

गिवाय देखो गिवाड । गिवायइ (कुमा) ।  
गिवाएजा (पि १३१) ।

गिवाय पुं [दे] स्वेद, पसीना (दे ४, ३४;  
सुर १२, ८) ।

गिवाय पुं [निपात] १ पतन, अघः-पतन,  
गिरना (गा २२२; सुपा १०३) । २ संयोग,  
संबन्ध; 'विट्ठिगिवाआ ससिमुहीए' (गा १४८;  
उत्त २; गडड) । ३ च, प्र आदि व्याकरण-  
प्रसिद्ध अच्यय (परह २, २; सुपा २०३) ।  
४ विनारा (पिड) ।

गिवाय वि [नियात] पवन-रहित, स्थिर  
(परह २, ३; स ४०३; ७४३) ।

गिवायग न [निपातन] १ गिराना, निपा-  
तन, ढाहना (परह १, २) । २ व्याकरण-  
प्रसिद्ध शब्द-सिद्धि, प्रकृति आदि के विना  
विभाग किये ही अखण्ड शब्द की निष्पत्ति  
(विसे २३) ।

गिवार सक [नि + वारय] निवारण करना,  
निषेध करना, रोकना । गिवारेइ (उव; महा) ।  
वक्क. गिवारंत (महा) । कवक्क. गिवारी-  
अंत, गिवारिज्जमाण (नाट—मृच्छ १५४;  
१३५) । क. गिवारियव्व, गिवारेयव्व  
(सुपा ४८२; महा) ।

गिवारग वि [निवारक] निषेध करनेवाला,  
रोकनेवाला (सुर १, १२६; सुपा ६३६) ।

गिवारण न [निवारण] १ निषेध, रूकावट  
(भग ६, ३३) । २ शीत आदि को रोकनेवाला,  
गूढ, वक्क आदि; 'न मे निवारणं अरिय,  
अविताणं न विवइ' (उत्त २, ७) । ३ वि.

निवारण करनेवाला, रोकनेवाला; 'उवसग्ग-  
निवारणो एसो' (अजि ३८) ।

गिवारय देखो गिवारग (उप ५३० टी) ।

गिवारि वि [निवारिन्] निवारक, प्रतिषेधक ।  
व्ही. °रिणी (महा) ।

गिवारिय वि [निवारित] रोका हुआ, निषिद्ध  
(भग; प्रासू १६६) ।

गिवास पुं [निवास] १ निवसन, रहना ।  
२ वास-स्थान, डेरा (कुमा; महा) ।

गिवासि वि [निवासिन्] निवास करनेवाला,  
रहनेवाला (महा) ।

गिविअ देखो गिमिअ = न्यस्त (से १२, ३०) ।

गिविट्ट देखो गिवट्ट = निवृत्त (सण) ।

गिविट्ट वि [निविष्ट] १ स्थित, वैठा हुआ  
(महा) । २ आसक्त, लीन (राज) ।

गिविट्ठि वि [निर्विष्ट] लब्ध, उपात्त, गृहीत  
(ठा ५, २) । °कप्पट्टिइ व्ही [°कल्पस्थिति]  
जैन साधुओं का एक तरह का आचार (ठा  
५, २) ।

गिविड देखो गिविड (पड; हे १, २४०) ।

गिविडिअ देखो गिविडिय (गडड; पि  
२४०) ।

गिवित्ति व्ही [निवृत्ति] १ निवर्त्तन, उपरम,  
प्रवृत्ति का अभाव (विसे २७६८; स १५४) ।  
२ वापस लौटना, प्रत्यावर्त्तन (सुपा ३३२) ।

गिविट्ट वि [दे] १ सोकर उठा हुआ । २  
निराश, हताश । ३ उड्डट । ४ तृषंस, निर्दय  
(दे ४, ४८) ।

गिविन्न वि [निर्विन्न] विशिष्ट ज्ञान से रहित  
(तंडु ५५) ।

गिविस अक [नि + विश] बैठना । वक्क.  
गिविसंत (धा १२) ।

गिविस (अप) देखो गिमिस (भवि) ।

गिविसिर वि [निवेष्ट] बैठनेवाला (सण) ।

गिवुज्जमाण वि [न्युह्यमान] नीयमान, जो  
ले जाया जाता हो वह (आचा २, ११, ३) ।

गिवुड्ड वि [निवृष्ट] वरसा हुआ (आचा २,  
४, १, ४) ।

गिवुड्ड सक [नि + वर्धय] १ त्याग  
करना, छोड़ना । २ हानि करना । वक्क.  
गिवुड्डेमाण (सुज १, १) । संक. गिवु-  
ड्डित्ता (सुज १) ।

गिबुड्डि ब्री [निवृद्धि] १ वृद्धि का अभाव (ठा २, ३) । २ दिन की छोटाई (भग) ।  
 गिबुण देखो गिउण (अचु २६) ।  
 गिबुत्त देखो गिबुट्ट = निवृत्त (स ५८८) ।  
 गिबुदि ब्री [निवृत्ति] परिवर्तन (प्राकृ १२) ।  
 गिबूट्ट देखो गिबूट्ट (सूत्र २, ७, ३८) ।  
 गिबेअ सक [नि + वेद्य] १ सम्मान-पूर्वक ज्ञापन करना, अर्ज करना । २ अर्पण करना । ३ मातृम करना । कर्म. गिबेइइइ (निचू १) ।  
 संकृ. गिबेइऊण (स ५६६) । हेकृ. गिबेएउं (पंचा १५) । कृ. गिबेयगीअ (स १२०) ।  
 गिबेअग वि [निवेदक] सम्मान-पूर्वक ज्ञापन करनेवाला, प्रार्थी (सुपा २६८) ।  
 गिबेअण न [निवेदन] १ सम्मान-पूर्वक गिबेअणय } ज्ञापन, विनय (पंचा १; निचू ११) । २ नैवेद्य, देवता को अर्पित अन्न आदि (पठम ३२, ८३) ।  
 गिबेअणा ब्री [निवेदना] ऊपर देखो (आया १, ५) । °पिंड पुं [°पिण्ड] देवता को अर्पित अन्न आदि, नैवेद्य (निचू ११) ।  
 गिबेअय देखो गिबेअग (सुपा २२५; स ५१६) ।  
 गिबेइय वि [निवेदित] सम्मान-पूर्वक ज्ञापित (महा: भवि) ।  
 गिबेइइअ वि [निवेदयेत्] निवेदन करनेवाला (अभि १३६) ।  
 गिबेस सक [नि + वेशय] स्थापना करना, बैठाना । गिबेसइ; गिबेसेइ (सण; कण्) । संकृ. गिबेसइत्ता, गिबेसिउं गिबेसिऊण, गिबेसिच्चा, गिबेसिय (उत्त ३२; महा; सण; कण्; महा) । कृ. गिबेसियच्च (सुपा ३६४) ।  
 गिबेस पुं [निवेश] १ स्थापन, आवाहन (ठा ६; उप पृ २३०) । २ प्रवेश (निचू ४) । ३ आवास-स्थान, डेरा (बृह १) ।  
 गिबेस पुं [नृपेश] १ महान् राजा, चक्रवर्ती राजा (सुपा ४६३) ।  
 गिबेसण न [निवेशन] १ स्थापन, बैठाना (आचा) । २ एक ही दरवाजेवाले अनेक गृह (आव ४) ।

गिबेसण न [निवेशन] गृह, घर (उत्त १३, १८) ।  
 गिबेसाथिय वि [निवेशित] बैठायी हुआ (महा) ।  
 गिब्य न [नीत्र] द्यदि, पटल-प्राप्त (दे ४, ४८; पात्र) ।  
 गिब्य न [नीत्र] छपर के ऊपर का खपरैल (एदि १५६) ।  
 गिब्य न [दे] १ ककुद, चिड़। २ व्याज, बहाना (दे ४, ४८) ।  
 गिब्यकर वि [दे] परिहान-रहित, सत्य (कुप १६७) ।  
 गिब्यकल वि [निर्वकल] बलकल-रहित, (पि ६२) ।  
 गिब्यट्ट देखो गिब्यत्त = निर + वत्तय् । संकृ. गिब्यट्टित्ता (ठा २, ४) ।  
 गिब्यट्ट (अप) देखो गिब्यट्ट (हे ४, ४२२ टि) ।  
 गिब्यट्टग वि [निर्वर्तक] बनानेवाला, कर्ता (आव ४) ।  
 गिब्यट्टिम देखो गिब्यट्टिम (दस ७, ३३) ।  
 गिब्यट्टिय वि [निर्वर्तित] निष्पादित, बनाया हुआ (आचा २, ४, २) ।  
 गिब्यड सक [मुच्] दुःख को छोड़ना । गिब्यडइ (पड) ।  
 गिब्यड अक [भू] १ पृथक् होना, जुदा होना । २ स्पष्ट होना । गिब्यडइ (हे ४, ६२) ।  
 गिब्यड देखो गिब्यल = निर + पद (सुपा १२२) ।  
 गिब्यडिअ वि [भूत] १ पृथक्-भूत, जो जुदा हुआ हो (से ६, ८८) । २ स्वप्नीभूत, जो व्यक्त हुआ हो (सुर ७, १०४) ।  
 गिब्यडिअ वि [निष्पन्न] सिद्ध, कृत, निवृत्त (पात्र); 'सुकुपुत्तौ व गुणन्तुया व सम्मं इमीए गिब्यडिया' (सुपा १२२) ।  
 गिब्यड वि [दे] नन, नंगा (दे ४, २८) ।  
 गिब्यण वि [निर्ण] अण-रहित, क्षत-वञ्जित, बिना धाव का (आया १, ३; औप) ।  
 गिब्यण सक [निर + चर्णय] १ श्लाघा करना, प्रशंसा करना । २ देखना । वक्र. गिब्यण्णांत (से ३, ४४; उप १०३१ टी; महा) ।

गिब्यत्त सक [निर + वत्तय] बनाना, करना, सिद्ध करना । गिब्यत्तेइ (महा) । संकृ. गिब्यत्तिऊण, गिब्यत्तेऊण (महा) ।  
 गिब्यत्त सक [निर + वृत्तय] गोल बनाना, बतुल करना । कवकृ. गिब्यत्ति-ज्जमाण (भग) ।  
 गिब्यत्त वि [निर्वत्त] निष्पन्न, रचित, निर्मित (महा; औप) ।  
 गिब्यत्त वि [निर्वर्त्य] बनाने योग्य, ज्ञान्य (प्राकृ २०) ।  
 गिब्यत्तण न [निर्वर्तन] निष्पत्ति, रचना, बनावट (उप पृ १८३) । °धिक्करगिया, °हिंकरगिया ब्री [°धिक्करगिक्की] शत्रु बनाने की क्रिया (ठा २, १; भग ३, ३) ।  
 गिब्यत्तणया } ब्री [निर्वर्तना] ऊपर देखो गिब्यत्तणा } (परण ३४; उत्त ३) ।  
 गिब्यत्तय वि [निर्वर्त्तक] निष्पन्न करनेवाला, बनानेवाला (विते ११४२; स ५६३; हे २, ३०) ।  
 गिब्यत्ति ब्री [निर्वृत्ति] निष्पत्ति, विनिर्माण (विते ३००२) । देखो गिब्यत्ति ।  
 गिब्यत्तिय वि [निर्वर्तित] निष्पादित, बनाया हुआ (स ३३६; सुर १५, २२१; संजि १०) ।  
 गिब्यत्तिय वि [निर्वृत्तित] गोलाकार किया हुआ (भग) ।  
 गिब्यमिअ वि [दे] परिभुक्त (दे ४, ३६) ।  
 गिब्यय अक [निर + वृ] शान्त होना, उपशान्त होना । कृ. गिब्ययणिज्ज (स ३०१) ।  
 गिब्यय वि [निर्वृत] १ उपशान्त, शम-प्राप्त (सूय १, ४, २) । २ परिखत, परिणाम-प्राप्त (दसनि १) ।  
 गिब्यय वि [निर्वृत] बत-रहित, नियम-रहित (पठम २, ८८; उप २६४ टी) ।  
 गिब्ययण न [निर्वचन] १ निर्वक्ति, शब्दार्थ कथन (आवम) । २ उत्तर, जवाब (ठा १०) । ३ वि. निर्वक्ति करनेवाला, निर्वाचक; 'जाव दविओवयोगो, अपच्छिमविप्रपनिब्ययणो' (सम्म ८) ।  
 गिब्ययणिज्ज देखो गिब्यय = निर + वृ ।  
 गिब्यर सक [कथय] दुःख कहना ।

गिञ्जरइ (हे ४, ३) । भुक्ता. गिञ्जरही (कुमा) । कर्म.

‘कह तम्मि. निञ्जरज्जइ,

दुक्खं कंहुञ्जुएण हिअएण ।

अदाए पडिदिने व, जम्मि

दुक्खं न संकमइ (स ३०६) ।

गिञ्जर सक [छिद्] छेदन करना, काटना ।

गिञ्जरइ (हे ४, १२४) ।

गिञ्जरण न [कथन] दुःख-निवेदन (गा २५५) ।

गिञ्जरिअ वि [छिन्न] काटा हुआ, खण्डित (कुमा) ।

गिञ्जल सक [मुच्] दुःख को छोड़ना । गिञ्जलेइ (हे ४, १२२) ।

गिञ्जल अक [निर् + पद्] निष्कल होना, सिद्ध होना, वनना । गिञ्जलइ (हे ४, १२८) ।

गिञ्जल देखो गिञ्जल = क्षर् । गिञ्जलइ (हे ४, १७३ टि) ।

गिञ्जल देखो गिञ्जड = भू । वक्क. गिञ्जलंत, गिञ्जलमाण (से १, ३६; ७, ४३) ।

गिञ्जलिअ वि [दे] १ जल-घौत, पानी से बोया हुआ । २ प्रविणणित । ३ विषट्ठि, विपुक्त (दे ४, ५१) ।

गिञ्जव सक [निर् + वापय्] ठंडा करना, बुझाना । गिञ्जवेहि (स ४५५) । गिञ्जवमु (काल) । वक्क. गिञ्जवंत (सुपा २२५) । क्क. गिञ्जवियच्च (सुपा २६०) ।

गिञ्जवण न [निर्वापण] १ बुझाना, शान्त करना । २ वि. शान्त करनेवाला, ताप को बुझानेवाला (सुर ३, २३७) ।

गिञ्जविअ वि [निर्वापित] बुझाया हुआ, ठंडा किया हुआ (गा ३१७; सुर २, ७४) ।

गिञ्जव अक [निर् + वह्] १ निभना, निर्वाह करना, पार पड़ना । २ आजीविका चलाना । गिञ्जवइ (स १०५; वज्जा ६) । कर्म. गिञ्जवइ (पि ५४१) । वक्क. गिञ्जवहंत (आ १२; कुप्र ३३) । क्क. निञ्जवहियच्च (कुप्र ३७५) ।

गिञ्जव संक [उद् + वह्] १ धारण करना । २ ऊपर उठाना । गिञ्जवइ (पड्) ।

गिञ्जवहण न [निर्वहण] निर्वाह, अन्त, नाटक की एक संधि (सुपा १७५, कुप्र ३७५) ।

गिञ्जवहण न [दे] विवाह, शादी (दे ४, ३६) ।

गिञ्जा अक [वि + अम्] विश्राम करना । गिञ्जाइ (हे ४, १५६) । वक्क. गिञ्जाअंत (से ८, ८) ।

गिञ्जाघाइम वि [निर्व्याघातिम] व्याघात-रहित, खलना-रहित (श्रौप) ।

गिञ्जाघाय वि [निर्व्याघात] १ व्याघात-वर्जित (खाया १, १; भग; कप्प) । २ न. व्याघात का अभाव (पएण २) ।

गिञ्जाघाया स्त्री [निर्व्याघाता] एक विद्या-देवी (पउम ७, १४५) ।

गिञ्जाण न [निर्वाण] १ मुक्ति, मोक्ष, निवृत्ति (विसे १६७५) । २ सुख, चैन, शान्ति, दुःख-निवृत्ति; निजणमणो निञ्जाणं सुंदरि निस्संसयं कुणइ (उप ७२८ टी; पउम ४६, १६) । ३ बुझाना, विव्यापन (आव ४) । ४ वि. बुझा हुआ; ‘जह दीवो गिञ्जाणो’ (विसे १६६१; कुप्र ५१) । ५ पुं. ऐरवत वर्ष में होनेवाले एक जिन-देव का नाम (सम १५४) ।

गिञ्जाण न [निर्वाण] तुप्ति (दस ५, २, ३८) ।

गिञ्जाण न [दे] दुःख-कथन (दे ४, ३३) । गिञ्जाणि पुं [निर्वाणिन्] भारतवर्ष में अतीत उत्सर्पिणी-काल में संजात एक जिन-देव (पव ७) ।

गिञ्जाणी स्त्री [निर्वाणी] भगवान् श्री शान्तिनाय की शासन-देवी (संति १; १०) ।

गिञ्जाय वि [निर्वाण] बीता हुआ, व्यतीत (से १४, १४) ।

गिञ्जाय वि [विश्रान्त] १ जिसने विश्राम किया हो वह (कुमा) । २ सुखित, निवृत्त (से १३, २३) ।

गिञ्जाय वि [निर्वात] वायु-रहित (खाया १, १; श्रौप) ।

गिञ्जालिय वि [भावित] धृक् किया हुआ (से १४, ५४) ।

गिञ्जाव देखो गिञ्जव । गिञ्जावेमि (स ३५२) । संक. गिञ्जाविऊण (निच् १) ।

गिञ्जाव पुं [निर्वाप] घी, शक आदि का परिमाण (निच् १) । ‘कहा स्त्री [कथा] एक तरह की भोजन-कथा (ठा ४, २) ।

गिञ्जावइत्तअ (शौ) वि [निर्वापयित्ठक] ठंडा करनेवाला (पि ६००) ।

गिञ्जावण न [निर्वापण] बुझाना, विव्यापन (दस ४) ।

गिञ्जावणा न [निर्वापणा] बुझाना, ठंडा करना; उपशान्ति (गठड) ।

गिञ्जावथ वि [निर्वापक] आग बुझानेवाला (सूअ १, ७, ५) ।

गिञ्जाविय वि [निर्वापित] ठंडा किया हुआ (खाया १, १; दस ५, १) ।

गिञ्जासण न [निर्वासन] देश निकाला (स ५३४; कुप्र ३४३) ।

गिञ्जासणा स्त्री [निर्वासना] ऊपर देखो (पउम ६६, ४१) ।

गिञ्जाह पुं [निर्वाह] १ निभाना, पार-प्राप्ति । २ आजीविका, जीवन-सामग्री; ‘निञ्जाहं-किप्पि दाउं च’ (सुपा ४८८) ।

गिञ्जाहग वि [निर्वाहक] निर्वाह करने-वाला (रंभा) ।

गिञ्जाहण न [निर्वाहण] १ निर्वाह, निभाना (सुपा ३६४) । २ निस्सार करना (राज) ।

गिञ्जाहिअ वि [निर्वाहित] अतिवाहित, वितया हुआ; गुजारा हुआ (से ६, ४२) ।

गिञ्जाहिअ वि [निर्व्याधिक] व्याधि-रहित, नीरोग (से ६, ४२) ।

गिञ्जिअट्ट देखो गिञ्जिगट्ट (सम्म ३३) ।

गिञ्जिआर वि [निर्विकार] विकार-रहित (गा ५०६) ।

गिञ्जिअ वि [निर्विकृतिक] १ घृत आदि विकृति-जनक पदार्थों से रहित (श्रौप) । २ न. प्रत्याख्यान-विशेष, जिसमें घृत आदि विकृतियों का त्याग किया जाता है (पव ४, पंचा ५) ।

गिञ्जिअगिच्छ वि [निर्विचिकित्स] फल-प्राप्ति में शंका-रहित (कस; धर्म २) ।

गिञ्जिअगिच्छ न [निर्विचिकित्सय] फल-प्राप्ति में सन्देह का अभाव (उत्त २८) ।

णिन्विङ्गिच्छा स्त्री [निर्विचिच्छिता] कल-  
प्राप्ति में शंका का अभाव (श्रौप; पडि) ।  
णिन्विद् सक [निर् + विन्द्] अर्च्छी तरह  
विचारना । निन्विदए (दस ४, १६; १७) ।  
णिन्विद् सक [निर् + विद्] धृणा करना ।  
णिन्विद्वेज्ज (सूत्र १, २, ३, १२) ।  
णिन्विक्कप्प वि [निर्विकल्प] १ सन्देह-  
णिन्विगप्प रहित, निःसंशय (कुमा; गच्छ  
२) । २ भेद-रहित (सम्म ३३) ।  
णिन्विगइय देखो णिन्विइय (संबोध ५८) ।  
णिन्विगप्पग न [निर्विकल्पक] बौद्ध-प्रसिद्ध  
प्रत्यक्ष ज्ञान-विशेष (धम्मसं ३१३) ।  
णिन्विगिअ देखो णिन्विइअ (पत्र २) ।  
णिन्विग्घ वि [निर्विघ्न] विघ्न-रहित-वाधा-  
वर्जित (सुपा १८७; सण) ।  
णिन्विचित्ति वि [निर्विचिन्त] चिन्ता-रहित,  
निश्चिन्त (सुर ७, १२३) ।  
णिन्विज्ज अक [निर् + विद्] निर्वेद पाना,  
विरक्त होता । णिन्विज्जेज्जा (उव) ।  
णिन्विज्ज वि [निर्विद्य] मूल (उत्त ११, २) ।  
णिन्विट्ठ वि [निर्वृष्ट] उपाजित, 'नानिन्विट्ठं  
लभमई (पिड ३७०) ।  
णिन्विट्ठ वि [दे] उचित, योग्य (दे ४, ३४) ।  
णिन्विट्ठ वि [निर्विष्ट] उपमुक्त, आसेवित,  
परिपालित (पाअ; अणु) । 'काइय न  
[°कायिक] जैन शास्त्र में प्रतिपादित एक  
तरह का चारित्र (अणु; इक) ।  
णिन्विण्ण वि [निर्विण्ण] निर्वेद-प्राप्त, खिन्न  
(महा) ।  
णिन्वित्त वि [दे] तो कर उठा हुआ (दे ४,  
३२) ।  
णिन्विच्चि देखो णिन्विच्चि । २ इन्द्रिय का  
आकार, द्रव्येन्द्रिय-विशेष (विसे २६६४) ।  
णिन्विद्द देखो णिन्विद्द = निर् + विद् (सूत्र  
१, २, ३, १२) ।  
णिन्विदुग्गुंछ वि [निर्विजुग्गुप्प] धृणा-  
रहित (धर्म १) ।  
णिन्विन्न देखो णिन्विण्ण (उव) ।  
णिन्विभाग वि [निर्विभाग] विनाग-रहित  
(दंस ५) ।  
णिन्विअय देखो णिन्विइअ (संबोध ५७; कुलक  
१२) ।

णिन्विअयण वि [निर्विजन] १ नमुष्य-रहित ।  
२ न. एकान्त स्थल (सुर ६, ४२) ।  
णिन्विअर वि [दे] चिपट, वेठा हुआ; 'अइणि-  
च्चिरनासाए' (गा ७२८ टि) ।  
णिन्विअराम वि [निर्विराम] विराम-रहित  
(उप पृ १८३) ।  
णिन्विअलं व क्रिवि [निर्विलम्ब] विलम्ब-रहित,  
शीघ्र (सुपा २५५; कुप ५२) ।  
णिन्विअवेअ वि [निर्विवेक] विवेक-शून्य  
(सुपा ३२३; ५००; गउड, सुर ८, १८१) ।  
णिन्विअस सक [निर् + विश्] त्याग करना ।  
निन्विअसेजा (कस) । वक्क. णिन्विअसंत (राज) ।  
णिन्विअस सक [निर् + विश्] उपभोग  
करना (पिड ११६ टी) ।  
णिन्विअस वि [निर्विप] विप-रहित (श्रौप) ।  
णिन्विअसंक वि [निर्विशङ्क] शंका-रहित,  
निर्भय (सुर १२, १६) ।  
णिन्विअसमाण न [निर्विशमान] १ चारित्र-  
विशेष (ठा ३, ४) । २ वि. उस चारित्र को  
पालनेवाला (ठा ६) । 'कप्पट्टिइ स्त्री  
[°कल्पस्थिति] चारित्र-विशेष की मर्यादा  
(कस) ।  
णिन्विअसय वि [निर्वेशक] उपभोग-कर्ता  
(पिड ११६) ।  
णिन्विअसय वि [निर्विपय] १ विषयों को  
अभिलाषा से रहित (उत्त १४) । २ अनर्थक,  
निरर्थक (पंचा १२; उप ६२५) । ३ देश से  
बाहर किया हुआ, जिसको देशनिकाले की  
सजा हुई हो वह (सुर ६, ३६; सुपा ५६६) ।  
णिन्विअसिट्ठ वि [निर्विशिष्ट] विशेष-रहित,  
समान, तुल्य (उप ५३० टी) ।  
णिन्विअसी स्त्री [निर्विपी] एक महौपधि  
(तो ५) ।  
णिन्विअसेस वि [निर्विशेष] १ विशेष-रहित,  
समान, साधारण (स २३; सम्म ६६; प्रासू  
६८) । २ अभिन्न, जो जुदा न हो (से १५,  
६५) ।  
णिन्वी स्त्री [निर्विकृति] तप-विशेष (संबोध  
५७) ।  
णिन्वीअय देखो णिन्विइअ (संबोध ५७) ।  
णिन्वीरा स्त्री [निर्वीरा] पुत्र-रहित विधवा  
स्त्री (मोह ४६) ।

णिन्वुअ वि [निर्वृत] निर्वृति-प्राप्त (स  
५६३; कप्प) ।  
णिन्वुइ स्त्री [निर्वृति] १ निर्वाण, मोक्ष,  
मुक्ति (कुमा; प्रासू १६४) । २ मन की  
स्वस्थता, निश्चिन्तता (सुर ४, ८६) । ३  
सुख, दुःख-निवृत्ति (आव ४) । ४ जैन साधुओं  
की एक शाखा (कप्प) । ५ एक राजकन्या  
(उप ६३६) । 'कर वि [°कर] निर्वृतिजनक  
(पएण १) । 'जणय वि [°जनक] निर्वृति  
का उत्पादक (गा ४२१) ।  
णिन्वुइकरा स्त्री [निर्वृतिकरा] भगवान्  
सुमतिनाय की दोहा-शिविका (विचार  
१२६) ।  
णिन्वुड देखो णिन्वुअ (कुमा; आचा) ।  
णिन्वुड वि [निर्वृत] अचित्त किया हुआ  
(दस ३, ६, ७) ।  
णिन्वुड्ढ देखो णिन्वुड्ढ = नि + मस्त् । वक्क.  
णिन्वुड्ढमाण (राज) ।  
णिन्वुड्ढ देखो णिन्वुड्ढ । वक्क. णिन्वुड्ढे-  
माण (सुज ६—पत्र ८०) । संक. णिन्वु-  
ड्ढेत्ता (सुज ६) ।  
णिन्वुड्ढ वि [निर्वृढ] निर्वाहित, निभाया  
हुआ (गा ३२) ।  
णिन्वुत्त देखो णिन्वुत्त (गा १५५) ।  
णिन्वुत्त देखो णिन्वुत्त = निर्वृत्त (पिग) ।  
णिन्वुत्ति देखो णिन्वुत्ति (गा ८२८) ।  
णिन्वुद्द देखो णिन्वुअ (संक्षि ६) ।  
णिन्वुदि देखो णिन्वुइ (प्राकृ ८) ।  
णिन्वुद्वभं देखो णिन्वुद्वह = निर् + वह् ।  
णिन्वुड्ढ वि [निर्वृढ] १ जिसका निर्वाह  
किया गया हो वह । २ कृत, विहित, निर्मित  
(गा २५५; से १, ४६) । ३ जिसने निर्वाह  
किया हो वह, पार-प्राप्त (विवे ४४) । ४  
व्यक्त, परिमुक्त (से ५, ६२) । ५ बाहर  
निकाला हुआ, निस्सारित; 'निन्वुढाय य पएसा  
तत्तो गाढप्पओसमावत्ता' (उप १३१ टी) ।  
णिन्वुड्ढ वि [दे] १ स्तव्य (दे ४, ३३) ।  
न. घर का पश्चिम आंगन (दे ४, २६) ।  
णिन्वुड्ढ वि [निर्वृढ] किसी ग्रंथ से  
उद्धृत कर बनाया हुआ ग्रन्थ (दसनि १,  
१२) ।

गिन्वेअ पुं [निर्वेद] मुक्तिकी इच्छा (सम्मत्त १६६) ।

गिन्वेअ पुं [निर्वेद] १ खेद, विरक्ति (कुमां; द्र ६२) । २ संसार की नियुंणता का अवधारण—निश्चय (ज्ञान) करना (उप ६८६) ।

गिन्वेअण न [निर्वेदन] १ खेद, वैराग्य । २ वि. वैराग्यजनक । छी. णीं (ठा ४, २) ।

गिन्वेद्ध सक [निर् + वेष्टय्] १ नाश करना, क्षय करना । २ धरना । ३ वाचना । वहु. गिन्वेद्धंत (विसे २७४५; आचा २, ३, २) ।

गिन्वेद्ध सक [निर् + वेष्टय्] त्याग करना । गिन्वेद्धेइ (सुज्जे २, १) ।

गिन्वेद्ध सक [निर् + वेष्टय्] मजबूती से वेष्टन करना । गिन्वेद्धिज, गिन्वेद्धेज्ज (आचा २, ३, २; पि ३०४) ।

गिन्वेद्ध वि [दे] नग्न, नंगा (दे ४; २८) ।

गिन्वेद देखो गिन्वेअ (उत्त २६, २) ।

गिन्वेर वि [निर्वे] वैर-रहित (अच्छु ५६) ।

गिन्वेरिस वि [दे] १ निर्दय, निष्कलण । २ अत्यन्त, अघिक (दे ४, ३७) ।

गिन्वेह्ण अक [निर् + वेह्ण] क्रुश, सत्य ठहरना, सावित होना । गिन्वेह्णइ (पि १०७) ।

गिन्वेह्णिअ वि [निर्वेह्णित] प्रस्फुरित, स्फूर्ति-युक्त (से ११, १९) ।

गिन्वेस वि [निर्वेस] द्वेष-रहित (से १५, ६५) ।

गिन्वेस पुं [निर्वेश] १ लाभ, प्राप्ति (ठा ५, २) । २ व्यवस्था; 'कम्मणा कप्पिआणं काही कम्मंतरेसु को गिन्वेसं' (अच्छु १८) ।

गिन्वेह्णिया वी [निर्वेधनिका] वनस्पति-विशेष (सूय २, ३, १६) ।

गिन्वोढव्य वि [निर्वोढव्य] निर्वाह-योग्य, बहन करने योग्य, निर्भाने लायक (आव ४) ।

गिन्वोल सक [कु] क्रोध से होठ को मलिन करना । गिन्वोलन (हे ४, ६६) ।

गिन्वोलण न [करण] क्रोध से होठ को मलिन करना (कुमा) ।

गिसं देखो गिसा (कुमां; पउम १२, ६५) ।

गिस सक [नि + अस्] स्थापन करना । गिसइ (ओप) ।

गिसंत वि [निशान्त] १ श्रुत, सुना हुआ (आया १, १; ४; उवा) । २ अत्यन्त ठंडा (आवम) । ३ रात्रि का अवसान, प्रभात; 'जहा गिसंते तवणच्चिमालीः पभासइ केवल-भारहं तु' (दस ६, १; १४) ।

गिसंस वि [नृशंस] क्रूर, निर्दय (सुपा ४०६) ।

गिसग्ग पुं [निसर्ग] १ स्वभाव, प्रकृति (ठा २, १; कुप्र १४८) । २ निसर्जन, त्याग (विसे) ।

गिसग्ग वि [नैसर्ग] स्वभाव से होनेवाला, स्वाभाविक (सुपा ६४८) ।

गिसग्ग न [नैसर्ग] जात्यन्व की तरह स्वभाव से अज्ञता (सूय २; ३, १६) ।

गिसग्गिय वि [नैसर्गिक] स्वाभाविक (सण) ।

गिसज्ज पुं देखो गिसज्जा 'निसज्जे वियड-णाए' (वव १) ।

गिसज्जा वी [निपद्या] १ आसन (दस ६) । २ उपवेशन, बैठना (वव ४) । देखो गिसिज्जा ।

गिसट्ट वि [निसट्ट] १ निकाला हुआ, त्यक्त १, १६) । २ दत्त, दिया हुआ (आया १, १—पत्र ७१) ।

गिसट्ट वि [दे] प्रदुर, बहुत (ओप ८७) ।

गिसट्ट (अप) वि [निपण्ण] वैठा हुआ (सण) ।

गिसट्ट पुं [निपथ] १ हरिवर्ष क्षेत्र से उत्तर में स्थित एक पर्वत (ठा २, ३) । २ स्वनाम-ख्यात एक वानर, राम-सैनिक (से ४, १०) ।

३ वैल, सांड (सुज ४) । ४ बलदेव का एक पुत्र (निर १, ५; कुप्र ३७२) । ५ देश-विशेष ।

६ निपथ देश का राजा (कुमा) । ७ स्वर-विशेष (हे १, २२६; प्राप्र) । °कूड न [°कूट]

निपथ पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३) । °दह पुं [°द्रह] द्रह-विशेष (जं ४) ।

गिसण्ण वि [निपण्ण] १ उपविष्ट, स्थित (गा १०८; ११६; उत्त २०) । २ कायोत्सर्ग का एक भेद (आव ५) ।

गिसण्ण वि [निःसंज] संज्ञा-रहित (से ६, ३८) ।

गिसत्त वि [दे] संतुष्ट, संतोष-युक्त (दे ४, ३०) ।

गिसन्न देखो गिसण्ण (उव; आया १, १) ।

गिसम सक [नि + समय] सुनना । वहु. गिसमंत (आवम) । कवकु. गिसम्मंत (गउड) संक्र. गिसमिअ, गिसम्म (नाट. वेणी ६८; उवा; आचा) ।

गिसमण न [निशमन] श्रवण, आकर्षण (हे १, २६६; गउड) ।

गिसम्म अक [नि + सद्] १ वैठना । २ सोना, शयन करना । गिसम्मउ (से ६, १७) । हेहु. गिसम्मिउं (से ५, ४२) ।

गिसर देखो गिसिर कवकु. निसरिज्जमाण (भग) ।

गिसह्ण देखो गिस्सह्ण (आ ४०) ।

गिसह्ण देखो गिसह्ण (इक) ।

गिसह्ण देखो गिस्सह्ण (पड) ।

गिसह सक [नि + सह] सहन करना । गिसहइ (प्राक्क ७२) ।

गिसा वी [निशा] अन्वकारवाली नरक-भूमि (सूय १, ५, १, ५) ।

गिसा [निशा] १ रात्रि, रात (कुमा; प्रासू ५५) । २ पीसने का पत्थर, शिलौट, सिलवट (उवा) । °अर पुं [°कर] चन्द्र, चांद (हे १, ८; पड) । °अर पुं [°चर] राक्षस (कप्पु; से १२, ६६) । °अरेंद पुं [°चरेन्द्र] राक्षसों का नायक, राक्षस-पति (से ७, ५६) । °नाह पुं [°नाथ] चन्द्रमा (सुपा ४१६) । °लोड न [°लोष्ट] शिला-पुत्रक, पीसने का पत्थर, लोड़ा (उवा) । °वइ पुं [°पति] चन्द्र, चांद, चन्द्रमा (गउड) । देखो गिसिं ।

गिसाण सक [नि + शाणय्] शान पर चढ़ाना, पेनाना, तीक्ष्ण करना । संक्र. निसा-णिऊण (स १४३) ।

गिसाण न [निशाण] शान, एक प्रकार का पत्थर, जिस पर हथियार तेज किया जाता है (गउड; सुपा २८) ।

गिसाणिय वि [निशाणित] शान दिया हुआ, पेनाया हुआ, तीक्ष्ण किया हुआ, पेना, धारदार, मुकीला (सुपा ५६) ।

गिसाम देखो गिसम । गिसामेइ (महा) । वहु. गिसामंत (सुर ३, ७८) । संक्र. गिसामिऊण, गिसामित्ता (महा; उत्त २) ।



गिसाम वि [निःश्याम] मालिन्य-रहित, निर्मल (से ६, ४७)।

गिसामण देखो गिसमण (सुपा २३)।

गिसामिअ वि [दे. निशमित] १ श्रुत, आकर्णित (दे ४, २७; गा २६)। २ उप-शमित, दवाया हुआ। ३ सिमटाया हुआ, संकोचित; 'नस्सामिओ फणाभोओ' (स ३५८)।

गिसामिर वि [निशमयित्] सुननेवाला (सण)।

गिसाय वि [दे.] प्रसुप्त (दे ४, ३५)।

गिसाय वि [निशात] शान दिया हुआ, तीक्ष्ण (पात्र)।

गिसाय पुं [निपाद्] १ चारडाल, एक प्राचीन जाति (दे ४, ३५)। २ स्वर-विशेष (ठा ७)।

गिसायंत वि [निशातान्त] तीक्ष्ण धार-वाला (पात्र)।

गिसास सक [निर + श्वासय्] निःश्वास डालना। वक्र. गिरसासएंत (पउम ६१, ७३)।

गिसास देखो गीसास (पिंग)।

गिसिं देखो गिसा (हे १, ८; ७२; पड; सुर १, २७)। १ पालअ पुं [पालक] छन्द-विशेष (पिंग)। २ भत न [भक्त] रात्रि-भोजन (ओष ७८७)। ३ मुत्त न [मुक्त] रात्रि-भोजन (सुपा ४६१)।

गिसिअ देखो गिसीअ एत्तिअइ (सण; कप्प)। संक. गिसिइत्ता (कप्प)।

गिसिअ वि [निशित] शान दिया हुआ, तीक्ष्ण (से ५, ४६; महा; हे ४, ३३०)।

गिसिक सक [नि + सिच्] प्रक्षेप करना, डालना। संक. गणसिक्रिय (आचा)।

गिसिज्जा देखो गिसज्जा (कप्प; सम ३५; ठा ५, १)। ३ उपाश्रय, साधुओं का स्थान (पंच ४)।

गिसिज्जमाण देखो गिसेह = नि + पिच्।

गिसिट्ठ वि [निसुट्ठ] १ बाहर निकाला हुआ (भास १०)। २ दत्त, प्रदत्त (आच)। ३ अनुशात (इह १)। ४ वनाया हुआ। क्रि. आमयहराई ... पउमो निहो निविट्ठ उवणभेई' (उप ६८६ टी)।

गिसिट्ठ वि [निपिट्ठ] प्रतिपिद्ध, निवारित (पंचा १२)।

गिसिय वि [न्यस्त] स्थापित (वर्म ७३)।

गिसियण न [निपदन] उपवेशन (पव)।

गिसिर सक [नि + सूज्] १ बाहर निकालना। २ देना, त्याग करना। ३ करना।

गिसिरइ (भास ५; भग); 'एरवरहाण। गिसिरंति जे न दंडं, तेवि हु पाविति निव्वाण' (सुर १५, २३४)। कर्म. गिसिरिज्जइ, गिसिरिज्जए (चित्ते ३५७)। वक्र. गिसिरंत (पि २३५)। कवक. गिसिरिज्जमाण (पि २३५)। संक. गिसिरित्ता (पि २३५)। प्रयो. गिसिरावेंति (पि २३५)।

गिसिरण न [निसर्जन] १ निस्सारण (भास २)। २ त्याग (णाय १, १६)।

गिसिरणया } छी [निसर्जना] १ त्याग,  
गिसिरणा } दान (आचा २, १, १०)।  
२ निस्सारण, निष्कासन (भग)।

गिसीअ अक [नि + पट्] बैठना। गिसीअइ (भग)। वक्र. गिसीअंत, गिसीअमाण (भग १३, ६; सूत्र १, १, २)। संक. गिसीइत्ता (कप्प)। हेक. गिसीइत्तए (कस)। क. गिसीइयव्व (णाय १, १; भग)।

गिसीअण न [निपदन] उपवेशन, बैठना (उप २६४ टी; स १८०)।

गिसीआवण न [निपादन] बैठाना (कस ४, २३ टी)।

गिसीढ देखो गिसीह = निशीय (हे १, २१६; कुमा)।

गिसीदण देखो गिसीअण (श्रौप)।

गिसीह पुंन [निशीथ] १ मध्य रात्रि (हे १, २१६; कुमा)। २ प्रकाश का अभाव (निच्च ३)। ३ न. जैन आगम-ग्रन्थ विशेष (एदि)। गिसीह पुं [नृसिंह] उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ मनुष्य (कुमा)।

गिसीहिअ वि [निशीथिक] निज के लिए लाया गया है ऐसा नहीं जाना हुआ भोजन-दि पदार्थ (पिड ३३६)।

गिसीहिआ छी [निपेथिकी] १ शव-परिष्ठा-पन-भूमि, रमशान-भूमि (अणु २०)। २ बैठने की जगह (राय ६३)।

गिसीहिआ छी [निशीथिक] १ स्वाध्याय-भूमि, अध्ययन-स्थान (आचा २, २, २)। २ थोड़े समय के लिए उपास स्थान (भग १४, १०)। ३ आचाराङ्ग सूत्र का एक अध्ययन (आचा २, २, २)।

गिसीहिआ छी [निपेथिकी] १ स्वाध्याय-भूमि (सम ४०)। २ पाप-क्रिया का त्याग (पडि; कुमा)। ३ व्यापारान्तर के निपेव ह्य आचार (ठा १०)। देखो गिसेहिया। गिसीहिआ छी [निशीथिकी] रात्रि, रात (उप १२७)। नाह पुं [नाथ] चन्द्रमा (कुमा)।

गिसुअ वि [दे. निश्रुत] श्रुत, आकर्णित (दे ४, २७; सुर १, १६६; २, २२६; महा; पात्र)।

गिसुद पुं [निसुन्द] रावण का एक सुभट (पउम ५६, २६)।

गिसुभ सक [नि + शुन्भ] मार डालना, व्यापादन करना। कवक. गिसुभंत, गिसु-वभंत (से ५, ६६; १४, ३; पि ५३५)।

गिसुभ पुं [निशुम्भ] १ स्वनाम-ख्यात एक राजा, एक प्रतिवासुदेव (पउम ५, १५६; पव २११)। २ दैत्य-विशेष (पिंग)।

गिसुभण न [निशुम्भन] १ मर्दन, व्यापादन, विनाश। २ वि. मार डालनेवाला (सूत्र १, ५, १)।

गिसुभा छी [निशुम्भा] स्वनाम-ख्यात एक इन्द्राणी (णाय २; इक)।

गिसुभिय वि [निशुम्भित] निपातित, व्या-पादित (सुपा ४६०)।

गिसुट्ठ वि [दे.] ऊपर देखो (हे ४, गिसुट्ठिअ २५८; से १०, ३६)।

गिसुड देखो गिसुड = नम। गिसुडइ (पड)।

गिसुडइ देखो गिसुट्ठ (हे ४, २५८ टि)।

गिसुड अक [नम] भार से आक्रान्त होकर नीचे नमना, झुकना। गिसुडइ (हे ४, १५८)।

गिसुड सक [नि + शुन्भ] मारना, मार कर गिराना। कवक. गिसुडिजंत (से ३, गिसुडिअ वि [नत] भार से नमा हुआ (पात्र)।

गिसुडिअ वि [निशुम्भित] निपातित (से १२, ६१)।

गिसुदिर वि [ नम्र ] भार ते नमा हुआ (कुमा) ।  
 गिसुण सक [ नि + श्रु ] सुनना, श्रवण करना ।  
 गिसुणइ, गिसुणेइ, गिसुणेमि (सण; महा; सट्टि १२८) । वक्र, गिसुणंत, गिसुणमाण सुपा १०६; सुर १२, १७४) । कवक. गिसुणिज्जंत (सुपा ४५; खण ६४) । संक. गिसुणिउं, गिसुणिऊण, गिसुणिऊणं (सुपा १४; महा; पि ५८५) ।  
 गिसुद्वि वि [ दे ] ? पातित, गिराया हुआ (दे ४, ३६; पात्र; ते ५; ६८) ।  
 गिसुद्वंभंत देखो गिसुंभ = नि + शुम्भ् ।  
 गिसुग देखो गिस्मूग (सुपा ३७०) ।  
 गिसूड देखो गिसूड = नि + शुम्भ् । हेक. गिसूडिउं (सुपा ३६६) ।  
 गिसूड देखो गिसह = नि + सह् । गिसूडइ (प्राक ७२) ।  
 गिसेग देखो गिसेय (पंच ५, ४६) ।  
 गिसेज्जा वी [ निपद्या ] वक्र, कपड़ा (पव १२७ टी) ।  
 गिसेज्जा देखो गिसज्जा (उव; पव ६७) ।  
 गिसेज्ज वि [ निपेद्य ] निपेद्य-योग्य (धर्म-सं ६६३) ।  
 गिसेणि देखो गिस्सेणि (सुर १३, १६०) ।  
 गिसेय पुं [ निपेक ] १ कर्म-पुद्गलों की रचना-विशेष (ठा ६) । २ सेचन. सींचना; 'ता संपइ जिणवरविद्वंसणामयनिणए पीणि-ज्जउ नियदिट्ठि' (सुपा २६६); 'काम्पानि कुणति सिखंडरसनिसेय' (सुपा २०) ।  
 गिसेव सक [ नि + सेव् ] १ सेवा करना, आदर करना । २ आश्रय करना । गिसेवइ, गिसेवण (महा; उव) । वक्र. गिसेवमाण (महा) । कवक. गिसेविज्जंत (श्रव ५६) । क. गिसेवणिउं (सुपा ३७) ।  
 गिसेव सक [ नि + सेव् ] आचरना । गिसेवण (अज्ज १७६) ।  
 गिसेवना देखो गिसेवय (सूत्र २, ६, ५) ।  
 गिसेवणा वी [ निपेयणा ] सेवा, भजना (उत्त ३२, ३) ।  
 गिसेवय वि [ निपेवक ] १ सेवा करनेवाला, सेवक । २ आश्रय करनेवाला (पुष्क २५१) ।  
 गिसेवा वी [ निपेया ] ऊपर देखो (सम्मत् १५५; संवोध ३४) ।

गिसेवि वि [ निपेविन् ] ऊपर देखो (स १०) ।  
 गिसेविय वि [ निपेवित ] १ सेवित, आदृत (आवम) । २ आश्रित (उत्त २०) ।  
 गिसेह सक [ नि + पिथ् ] निपेव करना, निवारण करना । गिसेहइ (हे ४, १३४) । कवक. गिसिज्जमाण (सुपा ५७२) । हेक. गिसेहिउं (स १६८) । क. गिसेहि-यउवा संयंपि माया' (सत्त ३५) ।  
 गिसेह पुं [ निपेव ] १ प्रतिपेव, निवारण (उव; प्रासू १८१) । २ अपवाद (श्रोध ५५) ।  
 गिसेहण न [ निपेधन ] निवारण (आवम) ।  
 गिसेहणा वी [ निपेधना ] निवारण (आव १) ।  
 गिसेहिया देखो गिसीहिआ = नैपेधिकी । १ मुक्ति, मोक्ष । २ रमशात-भूमि । ३ वैठने का स्थान । ४ नितम्ब, द्वार के समीप का भाग (राज) ।  
 गिस्स वि [ नि.स्य ] निर्धन, धन-रहित (पात्र) । °यर वि [ °कर ] १ निर्धन-कारक । २ कर्म को दूर करनेवाला (आचा २, १६, ६) ।  
 गिस्संक पुं [ दे ] निर्भर (दे ४, ३२) ।  
 गिस्संक वि [ नि:शङ्क ] १ शङ्का-रहित (सूत्र २, ७; महा) । २ न. शङ्का का अभाव (पंचा ६) ।  
 गिस्संकिअ वि [ नि:शङ्कित ] १ शङ्का-रहित (श्रोध ५६ भा; राया १, ३) । २ न. शङ्का का अभाव (उत्त २८) ।  
 गिस्संग वि [ नि:सङ्ग ] सङ्ग-रहित (सुपा १४०) ।  
 गिस्संचार वि [ नि:संचार ] संचार-रहित, गमनागमन-वर्जित (राया १, ८) ।  
 गिस्संजम वि [ निस्संयम ] संयम-रहित (पउम २७, ५) ।  
 गिस्संत वि [ नि:शान्त ] प्रशान्त, अतिशय शान्त (राय) ।  
 गिस्संद देखो णीसंद (परह १, १; नाट—मालती ५१) ।  
 गिस्संदेह वि [ निस्संदेह ] संदेह-रहित, निश्चय, नि:संशय (काल) ।  
 गिस्संधि वि [ निस्सन्धि ] सन्धि-रहित, संधा से रहित (परह १, १) ।  
 गिस्संस वि [ नृशंस ] क्रूर, निर्दय (महा) ।

गिस्संस वि [ नि:शंस ] श्लाघा-रहित (परह १, १) ।  
 गिस्संसय वि [ नि:संशय ] १ संशय-रहित । २ क्रि. नि:संदेह, निश्चय (अभि १८४; आवम) ।  
 गिस्संक सक [ नि + ष्वक् ] कम करना, घटाना । संक. गिस्संक्रिय (आचा २, १, ७, २) ।  
 गिस्सण पुं [ नि:स्यन ] शब्द, आवाज (कुप्र २७) ।  
 गिस्सण वि [ नि:संज्ञ ] संज्ञा-रहित (सूत्र १, ५, १) ।  
 गिस्सत्त वि [ नि:सत्त्व ] वैयं-रहित, सत्त्व-हीन (सुपा ३५६) ।  
 गिस्सन्न देखो गिसण (खण ५) ।  
 गिस्सम्म अक [ निर + श्रम् ] वैठना । वक्र. गिस्सम्मंत (से ६, ३८) ।  
 गिस्सय पुं [ निश्रय ] देखो गिस्सा (संवोध १६) ।  
 गिस्सर अक [ निर + सृ ] बाहर निकलना । गिस्सरइ (कप्प) । वक्र. गिस्सरंत (नाट—चेत ३८) ।  
 गिस्सरण वि [ नि:सरण ] निर्गमन, बाहर निकलना (ठा ४, २) ।  
 गिस्सरण वि [ नि:शरण ] शरण-रहित, आण-वर्जित (पउम ७३, ३२) ।  
 गिस्सरिअ वि [ दे ] वस्त, खिसका हुआ (दे ४; ४०) ।  
 गिस्सल्ल वि [ नि:शल्य ] शल्य-रहित (उप ३२० टी; द्र ५७) ।  
 गिस्सस अक [ निर + श्वस् ] नि:श्वास लेना । गिस्ससइ, गिस्ससंति (भग) । वक्र. गिस्ससिज्जमाण (ठा १०) ।  
 गिस्सह वि [ नि:सह ] मन्द, अशक्त (हे १, १३; ६३; कुमा) ।  
 गिस्सा वी [ निश्रा ] १ आलम्बन, आश्रय, सहारा (ठा ५, ३) । २ अधीनता (उप १३० टी) । ३ पक्षपात (वव ३) ।  
 गिस्साण न [ निश्राण ] निश्रा, अवलम्बन (परह १, ३) । °पय न [ °पद ] अपवाद (वृह १) ।  
 गिस्साण पुं [ दे ] वाद्य-विशेष, निशान्त; 'वज्जिरनिस्साणतूरवगज्जो' (धर्मवि ५६) ।

गिस्तार सक [ निर + सारय् ] बाहर निकालना । निस्तारइ (कुप्र १५४) ।  
 गिस्तार } वि [ निःसार ] १ सार-हीन,  
 गिस्तारग } निरर्थक (अणुः सूत्र १, ७;  
 आचा) । २ जीण, पुराना (आचा) ।  
 गिस्तारय वि [ निःसारक ] निकालनेवाला  
 (उप २०० टी) ।  
 गिस्तारिय वि [ निःसारित ] १ निकाला  
 हुआ । २ च्यावित, भ्रष्ट किया हुआ (सूत्र  
 १, १४) ।  
 गिस्तारास पुं [ निःश्वास ] निःश्वास, नीचा  
 श्वास (भग) । २ काल-मान-विशेष (इक) ।  
 ३ प्राण-वायु, प्रश्वास (प्राप्र) ।  
 गिस्ताराहार वि [ निःस्वाधार ] निराधार,  
 आलम्बन-रहित (सण) ।  
 गिस्सिग वि [ निःशृङ्ग ] शृंग-रहित (सुपा  
 ३१३) ।  
 गिस्सिगघिय न [ निःशिङ्घित ] अव्यक्त शब्द-  
 विशेष (विसे ५०१) ।  
 गिस्सिच अक [ निर + सिच् ] प्रदोष  
 करना, डालना, फेंकना । वक्र. गिस्सिचमाण  
 (राज) । संक्र. गिस्सिचिया (दस ५, १) ।  
 गिस्सिणेह वि [ निःस्नेह ] स्नेह-रहित (पि  
 १४०) ।  
 गिस्सिय वि [ निश्चित ] १ आश्रित,  
 अवलम्बित (ठा १०; भास ३८) । २ आसक्त,  
 अनुरक्त; तल्लीन (सूत्र १, १, १; ठा ५, २) ।  
 ३ न. राग, आसक्ति (ठा ५, २) ।  
 गिस्सिय वि [ निश्चित ] १ निश्चय से बद्ध  
 (सूत्र २, ६, २३) । २ पक्षपाती, रागी  
 (वव १) ।  
 गिस्सिय वि [ निःसृत ] निर्गत, निर्वात  
 (भास ३८) ।  
 गिस्सील वि [ निःशील ] सदाचार-रहित,  
 दुःशील (पट्टम २, ८८; ठा ३, २) ।  
 गिस्सुग वि [ निःशूक ] निर्दय, निष्करुण  
 (था १२) ।  
 गिस्सेजा देवो गिस्सेजा (पव १२७) ।  
 गिस्सेणि व्री [ निःश्रेणि ] सीढ़ी (परह १,  
 १; पाथ) ।  
 गिस्सेयस न [ निःश्रेयस ] १ कल्याण,  
 मंगल, क्षेम (ठा ४, ४; णाया १, ८) ।

२ मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण (श्रौपः रुंदि) । ३  
 अभ्युदय, उन्नति (उत्त ८) ।  
 गिस्सेयसिय वि [ निःश्रेयसिक ] मुमुक्षु,  
 मोक्षार्थी (भग १५) ।  
 गिस्सेस वि [ निःशेष ] सर्व, सब, सकल  
 (उप २००) ।  
 गिह वि [ निभ ] १ समान, तुल्य, सदृश (से  
 १, ५८; गा ११४; दे १, ५१) । २ न.  
 वहाना, व्याज, छल (पाथ) ।  
 गिह वि [ निह ] १ मायावी, कपटी (सूत्र १,  
 ६) । २ पीड़ित (सूत्र १, २, १) । ३ न.  
 आघात-त्याग (सूत्र १, ५, २) ।  
 गिह वि [ स्निह ] रागी, राग-युक्त (आचा) ।  
 गिहंतव्य देवो गिहण = नि + हन् ।  
 गिहंस पुं [ निघर्ष ] घर्षण (गउड) ।  
 गिहंसण न [ निघर्षण ] घर्षण, रगड़ (से ५,  
 ४६; गउड) ।  
 गिहट्टु अ. १ जुदा कर, पृथक् करके (आचा) ।  
 २ स्थापन कर (णाया १, १६) ।  
 गिहट्टु वि [ निघृष्ट ] घिसा हुआ (हे २,  
 १७४) ।  
 गिहण सक [ नि + हन् ] १ निहत करना,  
 मारना । २ फेंकना । गिहणामि (कुप्र  
 २६२) । गिहणहि (कप्प) । भूका—  
 गिहणिसु (आचा) । वक्र. निहणंत (सण) ।  
 संक्र. गिहणित्ता (पि ५८२) । कृ. गिहंतव्य  
 (पउम ६, १७) ।  
 गिहण सक [ नि + खन् ] गाड़ना । 'निहणंति  
 घरां घरणीयलम्मि' (वज्जा ११८) । हेक.  
 'चोरो दब्बं निहणि उम् आरद्धो' (महा) ।  
 गिहण न [ दे ] कूल, तीर, किनारा (दे ४,  
 २३) ।  
 गिहण त [ निधन ] १ मरण, विनाश (पात्र;  
 जी ४६) । २ पुं. रात्रण का एक सुभट  
 (पउम ५६, ३२) ।  
 गिहणण न [ निहनन ] निहति, मारना  
 (महा; स १६३) ।  
 गिहणिय वि [ निहत ] मारा हुआ (सुपा  
 १५८; सण) ।  
 गिहत्त सक [ निघत्तय् ] कर्म को निविड़  
 रूप से वाधना । भूका. गिहत्तिसु (भग) ।  
 भवि. गिहत्तेस्संति (भग) ।

गिहत्त देवो गिघत्त (भग) ।  
 गिहत्तण न [ निघत्तन ] कर्म का निविड़  
 बन्धन (भग) ।  
 गिहत्ति देवो गिघत्ति (राज) ।  
 गिहम्म सक [ नि + हम्म ] जाना, गमन  
 करना । गिहम्मइ (हे ४, १६२) ।  
 गिहय वि [ निहत ] मारा हुआ (गा ११८;  
 सुर ३, ४६) ।  
 गिहय वि [ निखात ] गाड़ा हुआ (स ७५६) ।  
 गिहर अक [ नि + ह् ] पाखाना जाना  
 (प्रामा) ।  
 गिहर अक [ आ + क्रन्द् ] चिल्लाना । गिहरइ  
 (पड्) ।  
 गिहर अक [ निर + सृ ] बाहर निकलना ।  
 गिहरइ (पड्) ।  
 गिहरण देवो गीहरण (णाया १, २—  
 पत्र ८६) ।  
 गिहव देवो गिहुव । गिहवइ (नाट; पि  
 ४१३) ।  
 गिहव वि [ दे ] सुप्त, सोया हुआ (पड्) ।  
 गिहव पुं [ निवह ] समूह (पड्) ।  
 गिहस सक [ नि + घृप् ] घिसना । संक्र.  
 गिहसिऊण (उव) ।  
 गिहस पुं [ निकष ] १ कपपट्टक, कसौटी का  
 पत्थर (पात्र) । २ कसौटी पर की जाती  
 रेखा (हे १, १८६; २६०; प्राप्र) ।  
 गिहस पुं [ निघर्ष ] घर्षण, रगड़ (से ६,  
 ३३) ।  
 गिहस पुं [ दे ] बल्मीक, सर्प आदि का विल  
 (दे ४, २५) ।  
 गिहसण न [ निघर्षण ] घर्षण, रगड़ (से ६,  
 १०; गा १२१; गउड; वज्जा ११८) ।  
 गिहसिय वि [ निघर्षित ] घिसा हुआ (वज्जा  
 १५०) ।  
 गिहा व्री [ निहा ] माया, कपट (सूत्र १, ८) ।  
 गिहा सक [ नि + धा ] स्थापना करना ।  
 निहेउ (स ७३८) । कवक. गिहिपपंत (से  
 ८, ६७) । संक्र. गिहाय (सूत्र १, ७) ।  
 गिहा सक [ नि + हा ] त्याग करना । संक्र.  
 गिहाय (सूत्र १, १३) ।  
 गिहा } सक [ दृश् ] देखना । गिहाइ.  
 गिहाआ } गिहाआइ (पड्) ।

गिहाण न [निघान] वह स्थान जहाँ पर घन आदि गाड़ा गया हो, खजाना, भण्डार (उवा: गा ३१८; गडड) ।  
 गिहाय पुं [दे] १ स्वेद, पसीना (दे ४, ४९) । २ समूह, जत्था (दे ४, ४९; से ४, ३८; स ४४९; मकि: पात्र; गडड; सुर ३, २३१) ।  
 गिहाय पुं [निघात] आघात, आस्फालन (से १५, ७०; महा) ।  
 गिहाय देखो गिहा = नि + घा, नि + हा ।  
 गिहाय पुं [निहाद] अव्यक्त शब्द (सुख ४, ६) ।  
 गिहार पुं [निहार] निगम (परह १, ५; ठा ८) ।  
 गिहारिम न [निहारिम] जिसके मृतक शरीर को बाहर निकालकर संस्कार किया जाय उसका मरण (मग) । २ वि. दूर जाने-वाला, दूर तक फैलनेवाला (परह २, ५) ।  
 गिहाल देखो गिभाल । गिहालेहि (स १००) । वक्र. गिहाल्यंत, गिहालयंत (उप ६४८ टी; ६८६ टी) । संक्र. गिहालेडं (गच्छ १) । क. गिहालेयव्व (उप १००७) ।  
 गिहालगन [निभालन] निरोक्षण, अवलोकन (उप ७२, सुर ११, १२; सुपा २३) ।  
 गिहालिअ वि [निभालित] निरोक्षित (पात्र; स १००) ।  
 गिहि वि [निधि] १ खजाना, भंडार (खाया १, १३) । २ वन आदि से भरा हुआ पात्र । (हे १, ३५; ३, १९; ठा ५, ३); 'अच्छेरेव गिहि विअ सगे रज्जं व अमअपाएवं व' (गा १२५) । ३ चक्रवर्ती राजा की संपत्ति-विशेष, नैसर्ग आदि जव निधि (ठा ९) ।  
 नाह पुं [नाथ] कुवेर, धनेश (पात्र) ।  
 गिहि पुं [निधि] लगातार नव दिन का उपवास (संघोष ५८) ।  
 गिहिअ वि [निहित] स्थापित (हे २, ९९; प्राप्र) ।  
 गिहिण्ण वि [निभिन्न] विदारित (अच्छु १९) ।  
 गिहित्त देखो गिहिअ (गा ५६५; काप्र ९०६; प्राप्र) ।  
 गिहिप्पंत देखो गिहा = नि + घा ।

गिहिल वि [निखिल] सब, सकल (अच्छु ९; आरा ५५) ।  
 गिहिल्लय देखो गिहिअ (सुख २, ४३) ।  
 गिही स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष (राज) ।  
 गिहीण वि [निहीन] न्यून (कुप्र ४५४) ।  
 गिहीण वि [निहीन] तुच्छ, खराब, हलका, सुद्र: 'अत्थि निहीणे देहे कि रागनिववणं तुष्कं ?' (उप ७२८ टी) ।  
 गिहु स्त्री [स्निहु] औपधि-विशेष (जीव १) ।  
 गिहुअ वि [निभृत] १ गुप्त, प्रच्छन्न, छिपा हुआ (से १३, १५; महा) । २ विनीत, अनुद्धत (से ४, ५६) । ३ मन्द, धीमा (पात्र; महा) । ४ निश्चल, स्थिर (उत्त १९) । ५ असंभ्रान्त, संभ्रमरहित (दस ६) । ६ घृत, धारण किया हुआ । ७ निर्जन, एकान्त । ८ अस्त होने के लिए उपस्थित (हे १, १३१) । ९ उपशान्त (परह २, ५) ।  
 गिहुअ वि [दे] १ व्यापार-रहित, अनुद्युक्त, निश्चेष्ट (दे ४, ५०; से ४, १; सूत्र १, ८; वृह ३) । २ तृष्णीक, मौन (दे ४, ५०; सुर ११, ८४) । ३ न. सुरत, मैथुन (दे ४, ५०; षड्) ।  
 गिहुअण देखो गिहुअण (गा ४८३) ।  
 गिहुआ स्त्री [दि] कामिता, संभोग के लिए प्रार्थित स्त्री (दे ४, २६) ।  
 गिहुण न [दे] व्यापार; धन्वा (दे ४, २६) ।  
 गिहुत्त वि [दे] निमग्न, हवा हुआ (पउम १०२, १९७) ।  
 गिहुत्थिभगा स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष (पण १—पत्र ३५) ।  
 गिहुअ सक [कामय] संभोग का अभिलाष करना । गिहुअ (हे ४, ४४) ।  
 गिहुअण न [निधुअण] सुरत, संभोग (कप्पु: काप्र १९४); 'गिहुअणं विअणाहिक्खिअ' (मै ४२) ।  
 गिहुअ न [दे] १ सुरत, मैथुन (दे ४, २६) । २ वि. अकिञ्चिक्कर (विसे २६१७) । देखो गीहूय ।  
 गिहिल्लण न [दे] १ गृह, घर, मकान (दे ४, ५१; हे २, १७४; कुमा, उप ७२८ टी; स १८०; पात्र; मवि) । २ जघन, स्त्री के कमर के नीचे का भाग (दे ४, ५१) ।

गिहो अ [न्यग्] नीचे (सूत्र १, ५, १, ५) ।  
 गिहोड सक [नि + धारय] निवारण करना, निषेध करना ।  
 गिहोड्ड (हे ४, २२) । वक्र. गिहोडंत (कुमा) ।  
 गिहोड सक [पातय] १ गिराना । २ नाश करना । गिहोड्ड (हे ४, २२) ।  
 गिहोड्डिय वि [पातित] १ गिराया हुआ (दंस ३) । २ विनाशित (उप ५९७ टी) ।  
 गी सक [गम्] जाना, गमन करना । गीइ (हे ४, १६२; गा ४९ अ) भवि. गीहसि (गा ७४९) । वक्र. गित्त, गेंत (से ३, २; गडड; गा ३३४; उप २६४ टी; गा ४२०) । संक्र. गित्तूण, नीउं (गडड; विसे २२२) ।  
 गी सक [नी] १ ले जाना । २ जानना । ३ ज्ञान कराना, बतलाना । गीइ, गायइ (हे ४, ३३७; विसे ९१४) । वक्र. गेंत (गा ५०; कुमा) । कवक्र. गिज्जंत, गीअमाण (गा ६८२ अ; से ६, ८१; सुपा ४७६) । संक्र. गइअ, गेउं, गेउआण, गेऊण (नाट—मृच्छ २६४; कुमा; पड्; गा १७२) । हेक्क. गेउं (गा ४६७, कुमा) । क. गेअ, गेअव्व (पउम ११६, १७; गा ३३९) । प्रयो. गेयावइ (साण) ।  
 गीअथ वि [दे] समीचीन, सुन्दर (पिंग) ।  
 गीआरण न [दे] बलि-घटी, बली रखने का छोटा कलश (दे ४, ४३) ।  
 गीइ स्त्री [नीति] १ न्याय, उचित व्यवहार, न्याय्य व्यवहार (उप १८६; महा) । २ नय, वस्तु के एक धर्म को मुख्यतया माननेवाला मत (ठा ७) । 'सत्थ न [शास्स] नीति-प्रतिपादक शास्त्र (सुर ६, ९५; सुपा ३४०; महा) ।  
 गीका स्त्री [नीका] कुल्या, नहर, सारथि (कुमा) ।  
 गीखय वि [नि:क्षत] निखिल, संपूर्ण; 'नय नीअयवक्खाणं तीरइ काअण सुत्तस्स' (विचार ८) ।  
 गीचअ न [नीचैस्] १ नीचे, अध: (हे १, १५४) । २ वि. नीचा, अध:स्थित (कुमा) ।  
 गीछूड देखो गिच्छूड (एदि) ।

पीजूह देखो णिज्जूह = दे, निर्वुह (राज) ।  
 पीड देखो णिड्डु (मा १०२; हे १, १०६) ।  
 पीण सक [ गम् ] जाना, गमन करना ।  
 पीणइ (हे ४, १६२) । पीणति (कुमा) ।  
 पीण सक [ नी ] १ ले जाना । २ बाहर ले  
 जाना, बाहर निकालना; 'मारभंडाणि पीणइ,  
 अमारं अबज्जइ' (उत्त १६, २२) । भवि.  
 नीणेहिइ (महा) । बह्. पीणेमाण । क्वक्क.  
 नीणिज्जंन पीणिज्जमाग (पि ६२;  
 आत्ता) । संक्क. पीणेऊण. पीणेत्ता (महा;  
 उवा) ।  
 पीणाविय वि [ नायित ] दूसरे द्वारा ले  
 जाया गया, अन्य द्वारा आनीत (उप १३६  
 टी) ।  
 पीणिअ वि [ गत ] गया हुआ (पात्र) ।  
 पीणिअ वि [ नीत ] १ ले जाया गया (उप  
 ५६७ टी; सुपा २६१) । २ बाहर निकाला  
 हुआ (खाया १, ४); 'उयरूपविट्ठुरियाए  
 नीणिओ अंतपन्मारो' (सुपा ३८१) ।  
 पीणिआ बी [ नीनिका ] चतुरिन्द्रिय जन्तु  
 की एक जाति (जीव १) ।  
 पीम पुं [ नीप ] १ वृक्ष-विशेष, कदंब का पेड़ ।  
 २ न. फल-विशेष (दस ५, २, २१) ।  
 पीम पुं [ नीप ] वृक्ष-विशेष, कदम्ब का पेड़  
 (परण १; औप; हे १, २३४) ।  
 पीमम वि [ निमम ] ममत्व-रहित (अज्ज  
 १०६) ।  
 पीमा देखो पीवी (कुमा; पड्) ।  
 पीय वि [ नीच ] १ नीच, अधम, जघन्य  
 (उवा; सुपा १०७) । २ वि. अवस्तन (सुपा  
 ६००) । ३ गोय न [ गोत्र ] १ क्षुद्र गोत्र ।  
 २ कर्म-विशेष, जो क्षुद्र जाति में जन्म होने  
 का कारण है (ठा २, ४; आत्ता) । ३ वि.  
 नीच गोत्र में उत्पन्न (सुय २, १) ।  
 पीय वि [ नीत ] ले जाया गया (आत्ता; उव;  
 सुपा ६) ।  
 पीय देखो णिच्च = नित्य (उव) ।  
 पीयंगम वि [ नीचंगम ] नीचे जानेवाला  
 (पुण्ण ४७३) ।  
 पीयंगमा बी [ नीचंगमा ] नदी, तरंगिणी  
 (भत्त ११६) ।

पीर न [ नीर ] जल, पानी (कुमा; प्राप् ६७) ।  
 पीहि पुं [ निधि ] समुद्र, सागर (सुपा  
 २०१) । पीह न [ पीह ] कमल (ती ३) ।  
 पीवाह पुं [ पीवाह ] मेघ, अन्न (उप पृ ६२) ।  
 पीहर पुं [ पीह ] समुद्र, सागर (उप पृ ११६) ।  
 पीहि पुं [ धि ] समुद्र (उप ६८६ टी) ।  
 पीकर पुं [ पीकर ] समुद्र (उप ५३० टी) ।  
 पीरंगी बी [ पी. नीरङ्गा ] सिर का अवगुण्ठन,  
 शिरोवन्न, घुँवट (हे ४, ३१, पात्र) ।  
 पीरंज सक [ भञ्ज ] तोड़ना, भंगना ।  
 पीरंजइ (हे ४, १०६) ।  
 पीरंजिअ वि [ भग्न ] तोड़ा हुआ, छिन्न  
 (कुमा) ।  
 पीरंय वि [ नीरन्त्र ] निद्रिच्छद्र (कप्पू) ।  
 पीरण न [ दि ] धातु, चारा; 'विमलो पंजलमगं  
 नीरिषणनोरणाइसंचुत्तं' (सुपा ५०१) ।  
 पीरय वि [ नीरजस् ] १ रजो-रहित, निर्मल,  
 शुद्ध; 'सिद्धिगच्छइ पीरयो' (गुरु १६; परण  
 ३६; सम १३७; पउम १०३, १३४; सार्व  
 ११२) । २ पुं. ब्रह्म-देवलोक का एक प्रस्तट  
 (ठा ६) ।  
 पीरय सक [ आ + क्षिप् ] आक्षेप करना ।  
 पीरयइ (हे ४, १४५) ।  
 पीरय सक [ लुभुक्ष् ] खाने को चाहना ।  
 पीरयइ (हे ४, ५) । भूका. पीरवीअ  
 (कुमा) ।  
 पीरय वि [ आक्षेपक ] आक्षेप करनेवाला  
 (कुमा) ।  
 पीरस वि [ नीरस ] रस-रहित, शुष्क (गउड;  
 महा) ।  
 पीरसजल न [ नीरसजल ] आर्धविल तप  
 (संबोध ५८) ।  
 पीराग } वि [ नीराग ] राग-रहित, वीतराग  
 पीराय } (गउड; कुप्र १२५; कुमा) ।  
 पीरेणु वि [ नीरेणु ] रजो-रहित, वृक्ष-रहित  
 (गउड) ।  
 पीरोम वि [ नीरोम ] रोग-रहित, तंदुरुस्त  
 (जीव ३) ।  
 पील अक [ निर + ल ] बाहर निकलना ।  
 पीलइ (हे ४, ७६) ।  
 पील पुं [ नील ] १ हरा बरंग, नीला रंग (ठा  
 १) । २ ब्रह्मविद्यायक-देव-विशेष (ठा २,

३) । ३ रामचन्द्र का एक सुभट, वानर-  
 विशेष (से ४, ५) । ४ छन्द-विशेष (पिग) ।  
 ५ पर्वत-विशेष (ठा २, ३) । ६ न. रत्न  
 की एक जाति, नीलम (खाया १, १) । ७  
 वि. हरा बरंगवाला (परण १, राय) । ८ कंठ  
 पुं [ पीकण्ठ ] १ शक्रेन्द्र का एक सेनापति,  
 शक्रेन्द्र के महिष-सैन्य का अविपति देव-विशेष  
 (ठा ५, १; इक) । २ मयूर, मोर (पात्र  
 कुप्र २४७) । ३ महादेव, शिव (कुम  
 २४७) । ४ कणवीर पुं [ पीकवीर ] हरे  
 रंग के फूलोंवाला कनेर का पेड़ (राय) ।  
 ५ गुफा बी [ पीगुफा ] उद्यान-विशेष  
 (आवम) । ६ मणि पुं [ पीमणि ] रत्न-विशेष,  
 नीलम, मरकत (कुमा) । ७ लेस वि [ पीलेस ]  
 नील लेशवाला (परण १७) । ८ लोसा बी  
 [ पीलेसा ] अशुभ अव्यवसाय-विशेष (सम  
 ११; ठा १) । ९ लेस देखो लेस (परण  
 १७) । १० लेसा देखो लेसा (राज) । ११ वंत  
 पुं [ पीवत् ] १ पर्वत-विशेष (ठा २, ३; सम  
 १२) । २ ब्रह्म-विशेष (ठा ५, २) । ३ न.  
 शिवर-विशेष (ठा २, ३) ।  
 पील वि [ नील ] कच्चा; आद्र (आचा २, ४,  
 २, ३) । ४ केशी बी [ पीकेशी ] तरुणी, युवति  
 (वव ४) ।  
 पीलकंठी बी [ पी ] वृक्ष-विशेष, बाण-वृक्ष (दे  
 ४, ४२) ।  
 पीला बी [ पीला ] १ लेश्या-विशेष, एक तरह  
 का आत्मा का अशुभ परिणाम (कम्म ४,  
 १३; भग) । २ नीलबरंगवाली बी (पड्) ।  
 पीलिअ वि [ निःसूत्र ] निर्गंत, निर्वति  
 (कुमा) ।  
 पीलिअ वि [ नीलित ] नील बरंग का (उप  
 पृ ३२) ।  
 पीलिआ देखो पीला; (भग) ।  
 पीलिम पुं [ पीलिमन् ] नीलत्व, नीलापन,  
 हरापन (सुपा १३७) ।  
 पीली बी [ पीली ] १ वनस्पति-विशेष, नील  
 (परण १; उर ६, ५) । २ नील बरंगवाली बी  
 (पड्) ३ आत्मा का रोग (कुप्र २१३) ।  
 पीलुंछ सक [ छ ] १ निष्पत्तन करना । २  
 आच्छादन करना । पीलुंछइ (हे ४, ७१;  
 पड्) । बह्. पीलुंछत्त (कुमा) ।

पीलुक सक [ गम् ] जाना, गमन करना ।  
 पीलुकइ (हे ४, १६२) ।  
 पीलुपल न [ नीलोटपल ] नील रंग का  
 कमल (हे १, ८४; कुमा) ।  
 पीलुय पुं [ दि ] अश्व की एक उत्तम जाति  
 (सम्मत २१६) ।  
 पीलोभास पुं [ नीलावभास ] १ ग्राहवि-  
 ष्टायक देव-विशेष (जा २; ३) । २ वि. नील-  
 च्छाय, जो नीला मालूम देता हो (शाया  
 १, १) ।  
 पीव पुं [ नीप ] वृद्ध-विशेष, कदम्ब का पेड़  
 (हे १, २३४; कम्प शाया १, ६) ।  
 पीवार पुं [ नीवार ] वृद्ध-विशेष, तिल्ली का  
 पेड़ (गउड) ।  
 पीवार पुं [ नीवार ] ग्रीहि-विशेष (सुप्र १,  
 ३, २; १६) ।  
 पीवी स्त्री [ नीवी ] मूल-धन, पूंजी । २ नारा,  
 इजारवन्द (पड; कुमा) ।  
 पीसंक देखो गिस्संक = निःशंक (गा ३४५;  
 कुमा) ।  
 पीसंक पुं [ दि ] वृषभ, बैल (पड) ।  
 पीसंकिअ देखो गिस्संकिअ (वित्ते ५६२;  
 सुर ७, १५५) ।  
 पीसंख वि [ निःसंख्य ] संख्या-रहित, असंख्य  
 (सुपा ३५५) ।  
 पीसंचार देखो गिस्संचार (पउम ३२, १) ।  
 पीसंद पुं [ निःष्यन्द ] रस-स्तुति, रस का  
 करण (गउड) ।  
 पीसंदिअ वि [ निःष्यन्दित ] फरा हुआ,  
 टपका हुआ (पात्र) ।  
 पीसंदिर वि [ निःष्यन्दित ] करनेवाला, टप-  
 कनेवाला (सुपा ५६) ।  
 पीसंपाय वि [ दि ] जहाँ जनपद परिव्रान्त  
 हुआ हो वह (दे ४, ४२) ।  
 पीसट्ट वि [ निःसृष्ट ] १ विमुक्त (पएह १,  
 १—पत्र १८) । २ प्रदत्त (वृह २) । ३ क्रिबि.  
 अतिशय, अत्यन्तः 'पीसट्टमचेयणो ए वा  
 ऋइ' (उव) ।  
 पीसण पुं [ निःस्वन ] आवाज, शब्द, ध्वनि  
 (सुर १३, १८२; कुप्र ५६) ।  
 पीसणिआ स्त्री [ दि ] निःश्रेणि, सीढ़ी (दे  
 पीसणी } ४, ४३) ।

पीसत्त वि [ निःसत्त्व ] सत्त्व-हीन, बल-रहित  
 (पउम २१, ७५; कुमा) ।  
 पीसइ वि [ निःशब्द ] शब्द-रहित (दे ७,  
 २८; भवि) ।  
 पीसर अक [ रम् ] क्रीड़ा करना, रमण करना ।  
 पीसरइ (हे ४, १६८) कृ. पीसरणिज्ज  
 (कुमा) ।  
 पीसर अक [ निर + स ] बाहर निकलना ।  
 पीसरइ (हे ४, ७६) । वक्र. नीसरंत  
 (ओष ४५८ टी) ।  
 पीसरण न [ निःसरण ] फितलन, रपटन  
 (वव ४) ।  
 पीसरण न [ निःसरण ] निर्गमन (से ६,  
 १८) ।  
 पीसरिअ वि [ निःसृत ] निर्गत, निर्वात  
 (सुपा २४७) ।  
 पीसल वि [ निःशल ] १ निश्चल, स्थिर ।  
 २ वक्रता-रहित, उत्तान, सपाट; 'नीसलतद्धिय-  
 चंदायएहि मंडियचरविक्रयादेसं' (सुर ३, ७२) ।  
 पीसल वि [ निःशल्य ] शल्य-रहित (भवि) ।  
 पीसव सक [ नि + श्रावय ] निर्जरा करना,  
 लय करना । वक्र. नीसवमाण (वित्ते  
 २७४६) ।  
 पीसवग देखो पीसवय (आवम) ।  
 पीसवत्त वि [ निःसपत्त ] शत्रु-रहित, विपक्ष-  
 रहित (मुच्छ ८; पि २७६) ।  
 पीसवय वि [ निःश्रावक ] निर्जरा करनेवाला  
 (वित्ते २७४६) ।  
 पीसस अक [ निर + श्वस् ] नीसास लेना,  
 श्वास को नीचा करना । पीससइ (पड) ।  
 वक्र. पीससंत, पीससमाण (गा ३३;  
 कुप्र ४३; आचा २, २, ३) । संक्र. पीस-  
 सिअ, पीससिऊण (नाट; महा) ।  
 पीससण न [ निःश्वसन ] निःश्वास (कुमा) ।  
 पीससिअ न [ निःश्वसित ] निःश्वास (से  
 १, ३८) ।  
 पीसह वि [ निःसह ] मन्द, अशक्त (हे १,  
 १३; कुमा) ।  
 पीसह वि [ निःशाख ] शाखा-रहित (गा  
 २३०) ।  
 पीसा स्त्री [ दि ] पीसने का पत्थर (वस ५,  
 १) ।

पीसा देखो गिस्सा (कम्प) ।  
 पीसाइ वि [ निःस्वादिन् ] स्वाद-रहित (प्रवि  
 १०) ।  
 पीसाण देखो गिस्साण = (दे) घर्मवि ८०) ।  
 पीसामण्ण } वि [ निःसामान्य ] १ असा-  
 पीसामन्न } धारण (गउड; सुपा ६१; हे २,  
 २१२) । २ गुरु (पात्र) ।  
 पीसार सक [ निर + सारय ] बाहर  
 निकालना । पीसारइ (भवि) । कर्म. नीसा-  
 रिज्जइ (कुप्र १४०) ।  
 पीसार पुं [ दि ] मण्डप (दे ४, ४१) ।  
 पीसार वि [ निःसार ] सार-रहित, फल्यु (से  
 ३, ४८) ।  
 पीसारण न [ निःसारण ] निष्कासन, बाहर  
 निकालना (सुर १५, २०३) ।  
 पीसारय वि [ निःसारक ] बाहर निकाल ने  
 वाला (से ३, ४८) ।  
 पीसारिय वि [ निःसारित ] निष्कासित (सुर  
 ५, १८८) ।  
 पीसास देखो गिस्सास (हे १, ६३; कुमा;  
 प्राप्र) ।  
 पीसास } वि [ निःश्वास, क ] निःश्वास  
 पीसासय } लेनेवाला (वित्ते २७१५; २७१४) ।  
 पीसाहार देखो गिस्साहार; "नीसाहारा य  
 पडइ भूमिण" (सुर ७, २३) ।  
 पीसित्त वि [ निःषिपक्त ] अत्यन्त सिक  
 (पड) ।  
 पीसीमिअ वि [ दि ] निर्वासित, देश-बाहर  
 किया हुआ (दे ४, ४२) ।  
 पीसेयस देखो गिस्सेयस (जीव ३) ।  
 पीसेणि स्त्री [ निःश्रेणि ] सीढ़ी (सुर १३,  
 १५७) ।  
 पीसेस देखो गिस्सेस (गउड, उव) ।  
 पीहट्टु अ. निकाल कर (आचा २, ६, २) ।  
 पीहट्टु अ [ नि + सृत्य ] बाहर निकल कर  
 (आचा २, १, १०, ४) ।  
 पीहड वि [ निहृत ] १ निर्गत, निर्वात  
 (आचा २; १, १) । २ बाहर निकाला हुआ  
 (वृह १; कस) ।  
 पीहडिया स्त्री [ निहृतिका ] अन्य स्थान में  
 ले जाया जाता द्रव्य (वृह २, सू० १८) ।  
 गु० माणु ।

णीहम्म अक [ निर + हम्म ] निकलना ।  
 णीहम्मइ (हे ४, १६२) ।  
 णीहम्मिअ वि [ निर्हम्मित ] निर्गत, निस्सृत  
 (दे ४, ४३) ।  
 णीहर अक [ निर + सु ] १ बाहर निक-  
 लना । णीहरइ (हे ४, ७६) । वक्क. नीहरंत  
 (सुभा ४८२) । संक. णीहरिअ (निचू ६) ।  
 क. णीहरियव्व (सुभा ५६०) ।  
 णीहर अक [ आ + क्रन्द ] आक्रन्द करना,  
 चिल्लाना । णीहरइ (हे ४, १३१) ।  
 णीहर अक [ निर + हद् ] प्रतिव्वनि  
 करना । वक्क. णीहरंत, णीहरिअंत (सि ५,  
 ११, २, ३१) ।  
 णीहर सक [ निर + सारय् ] बाहर निका-  
 लना । हेक्क. णीहरित्तए (भग ५, ४) । क.  
 णीहरियव्व (सुभा ४८२) ।  
 णीहर अक [ निर + ह् ] पाखाना जाना,  
 पुरीपोत्सर्ग करना । नीहरइ (हे ४, २५६) ।  
 णीहरण न [ निस्सरण, निर्हरण ] १ निर्ग-  
 मक, निर्गम, बाहर निकालना (विपा १, ३;  
 याया १, १४) । २ परित्याग (निचू १) ।  
 ३ अपनयन (सुत्र २, २) ।  
 णीहरिअ देखो णीहर = निर + सु ।  
 णीहरिअ वि [ निःसृत ] निर्गत, निर्यात (सुर  
 १, १५५, ३, ७५; पाद्य) ।  
 णीहरिअ वि [ निर्हृदित ] प्रतिव्वनित (से  
 ११, १२२) ।  
 णीहरिअ न [ दे ] शब्द, आवाज, ध्वनि (दे  
 ४, ४२) ।  
 णीहरिअंत देखो णीहर = निर + हद् ।  
 णीहार पुं [ नीहार ] १ हिम, तुषार (अच्छु  
 ७२; स्वप्न ५२, कुमा) । २ विष्ठा या मूत्र  
 का उत्सर्ग (सम ६०) ।  
 णीहारण न [ निस्सारण ] निष्कासन (ठा २,  
 ४) ।  
 णीहारि वि [ निर्हारिन् ] १ निकलनेवाला ।  
 २ फैलनेवाला, 'जोयण्णणीहारिणा चरेण'  
 (आवम; सम ६०) ।  
 णीहारि वि [ निर्हादिन् ] धोप करनेवाला,  
 बूँजनेवाला (ठा १०; पि ४०५) ।  
 णीहारिम देखो णीहारिम (ठा २; ४; औप;  
 याया १, १) ।

णीहासं वि [ निर्हास ] हास-रहित (उत्त २२,  
 २८) ।  
 णीहूय वि [ दे ] अकिञ्चिकर, कुछ भी नहीं  
 कर सकेवाला; 'पवयण्णणीहूयाणं' (आवनि  
 ७८७) । देखो णिहुअ ।  
 पु अ [ नु ] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१  
 व्यंग्य ध्वनि । २ वक्रोक्ति (सि ३४६) । ३  
 वितर्क (सण) । ४ प्ररन । ५ विकल्प । ६  
 अनुनय । ७ हेतु, प्रयोजन । ८ अपमान । ९  
 अनुताप, अनुशय । १० अपदेश, बहाना  
 (गडड; हे २, २१७; २१८) ।  
 पु अ [ नु ] १ निन्दानुचक अव्यय (दस २,  
 १) । २ विशेष (सिदि ६५१) ।  
 १णुअ वि [ ज्ञक ] जानकार (गा ४०५) ।  
 पुकार पुं [ नुकार ] 'नुक्' ऐसी आवाज  
 (राय) ।  
 पुज्जिय वि [ दे ] कन्द क्रिया हुआ, मुद्रित;  
 'कद्धिया सेण छुरिया, पुज्जियं से वयणं,  
 छिन्ना य हत्वा' (सि ५८६) ।  
 पुत्त वि [ नुत्त ] १ प्रेरित । २ क्षित, फँका  
 हुआ (से ३, १५) ।  
 पुम सक [ नि + अस् ] स्थापन करना ।  
 गुमइ (हे ४, १६६) ।  
 पुम सक [ छादय् ] ढकना, आच्छादन  
 करना । गुमइ (हे ४, २१) ।  
 पुमज्ज अक [ नि + सद् ] बैठना । गुमज्ज  
 (पड्) ।  
 पुमज्ज अक [ नि + मत्स् ] हुवना ।  
 गुमज्जइ (हे १, ६४) ।  
 पुमज्ज अक [ शी ] सोना, सूतना । गुमज्जइ  
 (प्राक्क ७४) ।  
 पुमज्जण न [ निमज्जण ] हुवना (राज) ।  
 पुमण्ण वि [ निपण्ण ] बैठा हुआ, उपविष्ट  
 (पड्; हे १, १७४) ।  
 पुमण्ण } वि [ निमग्ग ] हुवा हुआ, लीन  
 पुमन्न } (हे १, ६४; १७४) ।  
 पुमिअ वि [ न्यस्त ] स्थापित (कुमा) ।  
 पुमिअ वि [ छादित ] ढका हुआ (कुमा) ।  
 पुइ देखो णोइ । गुइइ (पि २४४) ।  
 पुवण्ण वि [ दे ] चुभ, सोया हुआ (दे ४,  
 २५) ।

पुवण्ण वि [ निपण्ण ] बैठा हुआ, उपविष्ट  
 (गडड; याया १, ५; स २४२); 'पासम्मि  
 नुवण्णा' (उप ६४= टी) ।  
 पुव्व सक [ प्र = काशय् ] प्रकाशित  
 करना । गुव्वइ (हे ४, ४५) । वक्क. पुव्वंत  
 (कुमा) ।  
 पुसा त्री [ स्तुपा ] पुत्र-वधू, पुत्र की नार्थ  
 (प्रथी १०५) ।  
 पुउर देखो णिउर = नुपुर (पड; हे १,  
 १२३) ।  
 पूण वि [ न्यून ] कम, जन (उप पृ ११६) ।  
 पूण } अ [ नूनम् ] इन अर्थों का सूचक  
 पूणं } अव्यय—१ निद्रय, अवधारण । २  
 तर्क, विचार । ३ हेतु, प्रयोजन । ४ उपमान ।  
 ५ प्ररन (हे १, २६; प्राप्र; कुमा; भग; प्राप्  
 १२; वृह १; आ १२) ।  
 पूतण वि [ नूतन ] नया, नवीन (मन ३०) ।  
 पूपुर देखो णुउर (चाह ११) ।  
 पूम सक [ छादय् ] १ ढकना, छिपाना ।  
 गुमइ (हे ४, २१) । गुमंति (याया १,  
 १६) । वक्क. पूमंत (गा ८५६) ।  
 पूम न [ दे ] १ प्रच्छादन, छिपाना । २  
 असत्य, सूड (पएह १, २) । ३ माया, कपट  
 (सम ७१) । ४ प्रच्छन्न स्थान, गुफा वगैरह  
 (सुत्र १, ३, ३; भग १२, ५) । ५ अन्वकार,  
 गाड़ अन्वकार (राज) ।  
 पूम न [ दे ] कर्म (सुत्र १, ३, ३, २) ।  
 १गिह न [ गृह ] भूमि-गृह (आचा २, ३,  
 ३, १) ।  
 पूमिअ वि [ छादित ] ढका हुआ, छिपाया  
 हुआ, (से १, ३२; पाद्य; कुमा) ।  
 पूमिअ वि [ दे ] पोला क्रिया हुआ (उप पृ  
 ३६३) ।  
 पूला त्री [ दे ] शाखा, डाल (दे ४, ४३) ।  
 णे अ. पाद-भूति में प्रयुक्त होता अव्यय (राज) ।  
 णेअ देखो णा = ज्ञा ।  
 णेअ देखो णी = नी ।  
 णेअ वि [ नैक ] अनेक, बहुत (पउम ६४,  
 ५१) । १विह वि [ विध ] अनेक प्रकार का  
 (पउम ११३, ५२) ।  
 णेअ अ [ नैव ] नहीं ही, कदापि नहीं, कभी  
 नहीं (से ४, ३०; गा १३६; गडड; सुर २,  
 १८६; सण) ।

गेअव्य देखो णी = नी ।

गेआइअ } वि [नैयायिक, न्याय्य] न्याय  
गेआउअ } से अवाधित, न्यायानुगत, न्यायो-  
चित; 'गेआइअस्स मग्गस्स दुट्ठे अवयरइ वहु'  
(सम ५१; श्रौप; परह २, १) ।

गेआउअय } वि [नेत्] १ ले जानेवाला  
गेउ } (सूत्र १, ८; ११) । २ प्रणेत,  
रचयिता (सूत्र १, ६; ७) ।

गेआवण न [नायन] अन्यद्वारा नयन,  
पहुँचाना (उप ७४६) ।

गेआविअ वि [नायित] अन्य द्वारा ले जाया  
गया; पहुँचाया हुआ (स ४२; कुप्र २०७) ।

गेउ वि [नेत्] नेता, नायक (पउम १४;  
६२; सूत्र १, ३, १) ।

गेउआण } देखो णी = नी ।  
गेउं }

गेउड्ड पुं [दे] सद्भाव, शिष्टता (दे ४,  
४४) ।

गेउण न [नेपुण] निपुणता, चतुराई (अभि  
१३२) ।

गेउणिअ वि [नेपुणिक] १ निपुण, चतुर  
(ठा ६) । २ न. अनुप्रवाद-नामक पूर्व-ग्रन्थ  
की एक वस्तु (विसे २३६०) ।

गेउणिअ देखो गेउण्ण (दस ६, २, १३) ।

गेउण्ण } न [नेपुण्य] निपुणता, चतुराई  
गेउन्न } (दस ६, २; सुपा २६३) ।

गेउर न [नूपुर] ली के पात्र का एक आभू-  
षण, पायल (हे १, १२३; गा १८८) ।

गेउरिअ वि [नूपुरवत्] नूपुरवाला (पि  
१२६; गउड) ।

गेऊण } देखो णी = नी ।  
गेत }

गेत देखो णी = गय ।

गेकंत देखो गिकंत (गा ११) ।

गेम देखो गेअ = नैक (कुमा; परह १, ३) ।

गेमम-पुं [नैगम] १ वस्तु के एक अंश को  
स्वीकारनेवाला पक्ष-विशेष, नय-विशेष (ठा  
७) । २ वणिक्, व्यापारी; 'जिणवम्म-  
भाविणं, न केवलं घम्मथो धणाओवि ।  
नेगमअडहियसहसो, जेण कम्मो अप्पणो  
सरिसो' (आ २७) । ३ न. व्यापार का  
स्थान (आचा २, १, २) ।

गेगुण न [नैगुण्य] निगुणता, निःसारता  
(सत १६३) ।

गेचइय पुं [नैचयिक] धान्य आदि का  
थोकवन्द व्यापारी (वव ४) ।

गेच्छइअ वि [नैश्चयिक] निश्चयतय-  
सम्मत, निरुपचरित, शुद्ध (विसे २८२) ।

गेच्छंत वि [नेच्छत्] नहीं चाहता हुआ  
(हेका ३०६) ।

गेच्छिय वि [नैच्छित] इच्छा का अविषय,  
अनमिलपित (जीव ३) ।

गेट्टिअ वि [नैष्टिक] पर्यन्त-वर्ती (परह  
२, ३) ।

गेड देखो गिड्डु (कुमा; हे १, १०६) ।

गेडाली ली [दे] सिर का भूषण-विशेष  
(दे ४, ४३) ।

गेडु देखो गिड्डु (हे २, ६६; प्राप्र; पड्) ।

गेड्डरिआ ली [दे] भाद्रपद मास की शुक्ल  
दशमी का एक उत्सव (दे ४, ४५) ।

गेत्त पुंन [नेत्र] नयन, आँख, चक्षु (हे १,  
३३; आचा) ।

गेत्त पुं [नेत्र] वृक्ष-विशेष (सूत्र २, २, १८) ।

गेद्दा देखो गिद्दा (पि १६२; नाट) ।

गेपाल देखो गेवाल (उप पृ ३६७) ।

गेम स [नेम] १ अर्ध, आधा (प्राप्ता) । २  
न. मूल, जड़ (परह १, ३; भग) ।

गेम न [दे] कार्य, काज (राज) ।

गेम पुंन [दे] कार्य, काम, काज (पिड ७०) ।

गेम देखो गेम्म = दे (परह २, ४ टी—पत्र  
१३३) ।

गेमाल-पुं. व. [नेपाल] एक भारतीय-देश,  
नेपाल (पउम ६८, ६४) ।

गेमि पुं [नेमि] १ स्वनाम-ख्यात एक जिन-  
देव, वाइसर्व तीर्थकर (सम ४३; कप्प) ।  
२ चक्र की धारा (ठा ३, ३; सम ४३) । ३  
चक्र परिधि, चक्र का घेरा (जीव ३) । ४  
आचार्य हेमचन्द्र के भातुल—मामा का नाम  
(कुप्र २०) । ५ चंद पुं [चन्द्र] एक जैना-  
चार्य (सार्य ६२) ।

गेमित्त देखो गिमित्त (आवम) ।

गेमित्त वि [निमित्तिय] निमित्त-शास्त्र  
का जानकार (सुर १, १४४; सुपा १५४) ।

गेमित्तिय } वि [निमित्तिक] १ निमित्त-  
गेमित्तिय } शास्त्र से संबन्ध रखनेवाला (सुर  
६, १७७) । २ कारणिक, निमित्त से होने-  
वाला, कारण से किया जाता, कदाचित्क-  
'उववासो गेमिस्सिमो जम्मो भणियो' (उप  
६८३; उवर १०७) । ३ निमित्त शास्त्र का  
जानकार (सुर १, २३८) । ४ न. निमित्त  
शास्त्र (ठा ६) ।

गेमी ली [नेमी] चक्र-वारा (दे १, १०६) ।

गेम्म वि [दे. निभ] तुल्य, सदृश, समान  
(परह २, ४—पत्र १३०) ।

गेम्म देखो गेम = नेम (परह १, ५—पत्र  
६४) ।

गेरइअ वि [नैरयिक] १ नरक-संबन्धी, नरक  
में उत्पन्न (हे १, ७६) । २ पुं. नरक का  
जीव; नरक में उत्पन्न प्राणी (सम २, विपा  
१, १०) ।

गेरइअ वि [नैर्द्धतिक] नैर्द्धत कोण, दक्षिण-  
पश्चिम विदिशा (अणु २१५) ।

गेरई ली [नैर्द्धती] दक्षिण और पश्चिम के  
बीच की दिशा (सुपा ६८; ठा १०) ।

गेरुत्त न [नैरुत्त] १ व्युत्पत्ति के अनुसार  
अर्थ का वाचक शब्द (अणु) । २ वि. निरुक्त  
शास्त्र का जानकार (विसे २४) ।

गेरुत्तिय वि [नैरुत्तिक] व्युत्पत्ति-निष्पन्न  
(विसे ३०३७) ।

गेरुत्ती ली [नैरुत्ति] व्युत्पत्ति (विसे २१८२) ।

गेल वि [नैल] नील का विकार (भग; श्रौप) ।

गेलंछण देखो गिलंछण (स ६६६) ।

गेलच्छ पुं [दे] नपुंसक, पंड (दे ४, ४४;  
पाअ; हे २, १७४) । २ वृषभ, बैल (दे  
४, ४४) ।

गेलय-पुं [दे. नेलन] लपया (पव १११) ।

गेलिच्छी ली [दे] कूपतुला, डेंकवा (दे  
४, ४४) ।

गेलच्छ देखो गेलच्छ (पि ६६) ।

गेव देखो गेअ = नैव (उव; पि १७०) ।

गेवच्छ देखो गेवत्थ (से १२, ६७; प्रति  
६; श्रौप; कुमा; पि २८०) ।

गेवच्छण न [दे] अवतारण, नीचे उतारना  
(दे ४, ४०) ।

गेवच्छिय देखो गेवत्थिय (पि २८०) ।



गेवदथ न [नेपध्य] १ वज्रआदि की रचना, वेप की सजावट; नाटक आदि में परदे के भीतर का स्थान जिसमें नट-नटी नाना प्रकार का वेश सजाते हैं; रंगशाला, नाट्यशाला (सुपा १, १)। २ वेप (विसे २५८७; सुर ३, ६२; सण; सुपा १५३)।

गेवत्यण न [दे] निहलन, उत्तरीय वज्र का अञ्चल (कुमा)।

गेवत्थिय वि [नेपथियत] जिसने वेप-भूषा की हो वह; 'पुरिसनेवत्थिया' (विपा १, ३)।

गेवाइय वि [नेपातिक] निपात-निष्पन्न नाम, अव्यय आदि (विसे २८४०; भग)।

गेवाल पुं [निपाल] १ एक भारतीय देश, नेपाल (उप पृ ३२३; कुप ४५८)। २ वि. नेपाल-देशीय, नेपाली (पउम २६; ५५)।

गेविज्ज न [नैवेद्य] देवता के आगे धरा गेवेज्ज } हुआ अन्न आदि (सं १२२; वा १६)।

गेव्वाण देखो। गिन्वाण = निर्वाण (आचा; सुर ६, २०; स ७४४)।

गेव्वुअ देखो। गिन्वुअ (उप ७३० टी)।

गेव्वुइ देखो। गिन्वुइ (उप ४६८ टी)।

गेसग्गिय देखो। गिसग्गिय (सुपा ६)।

गेसज्जि वि [नेपथिन] आसन-विशेष से उपनिष्ठ (पव ६७; पंचा १८)।

गेसज्जिअ वि [नेपथिक] ऊपर देखो (ठा ५, १; औप; परह २, १; कस)।

गेसत्थि पुं [दे] वणिग् मन्त्री, वणिक् प्रधान (दे ४, ४४)।

गेसत्थिया } स्त्री [नेसथिकी, नैसथिकी]  
गेसत्थी } १ निसर्जन, निक्षेपण। २ निसर्जन से होनेवाला कर्म-बन्ध (ठा २, १; नव. १८)।

गेसत्थि पुं [नेसर्प] निधि विशेष, चक्रवर्ती राजा का एक देवाधिष्ठित निधान (ठा ६; उप ६८६ टी)।

गेसर पुं [दे] रवि, सूर्य (४, ४४)।

गेसाअ देखो। गिसाय = निपाद (राज)।

गेसु पुंन [दे] १ ओष्ठ, ओठ, होंठ। २ पाँव; 'तह निक्खिधंतमंता क्वम्मि निहत्तणुसुधुं' (उप ३२० टी)।

गेह पुं [स्नेह] १ राग, अनुराग, प्रेम (पाय)। २ तेल आदि चिकना रस-पदार्थ। ३ चिकनाई, चिकनाहट (हे २, ७७; ४, ४०६; प्राप्र)।

गेहर देखो। गेहुर (परह १, १)।

गेहल पुं [स्नेहल] छन्द-विशेष (पिग)।

गेहल वि [स्नेहल] स्नेही, स्नेह युक्त, 'पियराइं नेहलाइं, अणुरत्ताओ गिहिणीओ' (धर्मवि १२५)।

गेहालु वि [स्नेहवत्] स्नेह-युक्त, स्निग्ध (हे २, १५६)।

गेहुर पुं [नेहुर] १ देश-विशेष, एक अनायं देश। २ उसमें बसनेवाली अनायं जाति (परह १, १—पत्र १४)।

गो अ [नो] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ निषेध, प्रतिषेध, अभाव (ठा ६; कस; गउड)। २ मिश्रण, मिश्रता; 'नोसहो मिस्सभावम्मि' (विसे ५०)। ३ देश, भाग, अंश, हिस्सा (विसे ८८८)। ४ अवधारण, निश्चय (राज)।

आगम पुं [आगम] १ आगम का अभाव। २ आगम के साथ मिश्रण। ३ आगम का एक अंश (आवम; विसे ४६; ५०; ५१)। ४ पदार्थ का अपरिज्ञान (एदि)।

इंदिय न [इन्द्रिय] मन, अन्तःकरण, चित्त (ठा ६; सम ११; उप ५६७ टी)।

कसाय पुं [कपाय] कपाय के उद्योपक हास्य वगैरह नव पदार्थ, वे ये हैं—हास्य, रति; अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुंवेद, ज्ञेविद और नपुंसकवेद (कम्म १, १७; ठा ६)।

केवलनाण न [केवलज्ञान] अवधि और मनःपर्यव ज्ञान (ठा २, १)।

गार पुं [कार] 'नो' शब्द (राज)। गुण वि [गुण] अयवार्थ, अवास्तविक (अणु)।

जीव पुं [जीव] १ जीव और अजीव से भिन्न पदार्थ, अवस्तु। २ अजीव, निर्जीव। ३ जीव का प्रदेश (विसे)।

तह वि [तथ] जो वैसा ही न हो (ठा ४, २)।

गो अ [दे] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ खेद। २ आमन्त्रण। ३ विचित्रता। ४ वितर्क। ५ प्रकोप (प्राकृ ८०)।

गो पुं [नु] पुच्छ, नर; 'णोवावाराभावम्मि अणणहा खम्मि चैव उवलदी' (धर्मसं १२५३; १२५६)।

गोक्ख वि [दे] अनोखा, अपूर्व (पिग)।

गोगोण वि [नोगोण] अयवार्थ (नाम) (अणु १४०)।

गोजुग न [नोयुग] न्यून युग (सुज्ज ११)।

गोदिअ देखो। गोदिअ (राज)।

गोमलिआ स्त्री [नवमल्लिका] सुगन्धि फूल-वाला वृक्ष-विशेष, नेवारी, वासंती (नाट; पि १५४)।

गोमलिआ स्त्री [नवमल्लिका] ऊपर देखो (हे १, १७०; गा २८१; पड; कुमा; अमि २६)।

गोमि पुं [दे] रस्ती, रज्जु (दे ४, ३१)।

गोलइआ स्त्री [दे] चन्दु, चाँच, चाँच (दे गोल्छ्या ४, ३६)।

गोल्ल सक [क्षिप्, तुद्] १ फेंकना। प्रेरणा करना। गोल्लइ (हे ४, १४३; पड)। गाल्लेइ (गा ८७५)। कवक. गोल्हजंत (सुर १३, १६६)।

गोल्हिअ वि [नोदित] प्रेरित (से ६, ३२; सुपा १, ६; परह १, ३; सं ३४०)।

गोव्व पुं [दे] आयुक्त, सूवा या सुवेदार राज-प्रतिनिधि (दे ४, १७)।

गोहल पुं [लोहल] अव्यक्त शब्द-विशेष (पड पि २६०; संक्षि ११)।

गोहलिआ स्त्री [नवफलिआ] १ ताजी फली, नवोत्पन्न फली (हे १, १७०)। २ नूतन फलवाली (कुमा)। ३ नूतन फल का उद्गम; 'गोहलिअमण्यो कि ण मग्गसे, मग्गसे, कुरवअस्स' (गा ६)।

गोहा स्त्री [स्तुपा] पुत्र की भार्या, पुत्रवधु-पतोहू, वधू (पि १४८; संक्षि १५)।

गगअ वि [ज्ञक] जानकार (गा २०३)।

गणास देखो। गणास = न्यास (स्वप्न १३४)।

गणुअ देखो। गणअ (गा ४०५)।

पहं अ. १-२ वाक्यालंकार और पादपूर्ति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय (कप्प; कस)।

पहव सक [स्नपय्] नहलाना, स्नान कराना। एहवेइ (कुप ११७)। कवक. पहविजंत (सुपा ३३)। संक. पहविऊण (पि २१३)।

पहवण न [स्नपन] स्नान कराना, नहलाना (कुमा)।

पहविअ वि [स्नपित] जिसकी स्नान कराया गया हो वह (सुर २, ५८; भवि)।

पहा } अक [स्ता] स्नान करना, नहाना।  
पहाण } एहाइ (हे ४, १४)। एहाणेइ, एहाणेति (पि ३१३)। भवि. एहाइस्स

(पि ३१३) । वक्र. पहायमाण (राया १, १३) । संक्र. पहाइत्ता, पहाणित्ता (पि ३१३) ।  
 पहाण न [स्नान] नहाना, नहान (कप्प; प्राप्र) । °पीठ पुंन [°पीठ] स्नान करने का पट्टा (राया १, १) ।  
 पहाणमहिया वी [स्नानमहिया] स्नान-योग्य पुष्प-विशेष, मालती-पुष्प (राय ३४) ।  
 पहाणिआ वी [स्नानिका] स्नान-क्रिया (परह २, ४—पत्र १३१) ।  
 पहाणिय वि [स्नानित] जिसने स्नान किया हो वह (पत्र ३८) ।

पहाय वि [स्नात] जिसने स्नान किया हो वह, नहाया हुआ (कप्प; औप) ।  
 पहायमाण देखो पहा  
 पहारुन [स्नायु] ? अस्त्रिय-वन्धनी. तिरा, नस, घमनी (सम १४६; परह १, १; ठा २, १; आवा) । २ अगदश श्रेणी में की एक श्रेणी, कुम्हार, पटेल आदि (लोकप्रकाश ४६४ पत्र, नमं ३१) ।  
 पहाव देखो प्हव । एहावइ, एहादेइ (भवि; पि ३१३) । वक्र. पहावअंत (पि ३१३) ।  
 संक्र. पहाविऊण (महा) ।  
 पहाविअ वि [स्नपित] नहलाया हुआ,

जिसको स्नान कराया गया हो सह (महा भवि) ।  
 पहाविअ पुं [स्नपित] हजाम, नाई (हे १, २३०; कुमा); वैतूण. एहावियं आगएण मुंडाविया कुमरो (उप ६ टी) । °पसेवय पुं [°प्रसेवक] नाई की अपने उपकरण रखने की थैली (उत्त २) ।  
 पहु अ [दे] निरचय-सूचक अव्यय (जीवस १८०) ।  
 पहुसा वी [स्तुपा] पुत्र-वधू, पुत्र की भार्या, पतोहू (आवम; पि ३१३) ।  
 पहुहा देखो पहुसा (सिरि २५१) ।

॥ इय सिरिपाइअसदमहणवो गणाराइसदसंकलणो, अइएसेण नगाराइसदसंकलणो वाईसइमो तरंगो समत्तो ॥

त

त पुं [त] दस्त-स्नानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्राप्र; प्रामा) ।  
 त न [तन्] वह (ठा ३, १; हे १, ७; कप्प; कुमा) ।  
 तं स [त्वन्] तू । °कय वि [°कृत] तेरा क्रिया हुआ (स ६८०) ।  
 तं देखो तया = त्वच् । °दोसि वि [°दोपिन्] १ चर्म-तोंगी । २ कुशो (पिड ४७५) ।  
 तय देखो तय = तपस (हात्य १३५) । तइ वि [तीज] उत्तना (वव १) ।  
 तइ (अप) अ [तत्र] वहाँ, उसमें (पइ) ।  
 तइ अ [तदा] उस समय (प्राप्र) ।  
 तइअ वि [तृतीय] तीसरा (हे १, १०१; कुमा) ।  
 तइअ (अप) वि [त्वदीय] तुम्हारा (भवि) ।  
 तइअ अ [तदा] उस समय  
 भणियाँ रना मंती,  
 मइसागर तइय पव्वर्यत्तण ।

ताएण अहं भणियो,  
 भणियो ठाणम्मि दायव्वा (सुर १, १२३) ।  
 तइअहा (अप) अ [तदा] उस समय (भवि; सएण) ।  
 तइआ अ [तदा] उस समय (हे ३, ६५; गा ६२) ।  
 तइआ वी [तृतीया] तृतीय-विशेष, तीज (सम २६) ।  
 तइया वी [तृतीया] तीसरी विभक्ति (चैइय ६८३) ।  
 तइल देखो तेह (उम २२६) ।  
 तइलोई वी [त्रिलोकी] तीन लोक—स्वर्ग, मर्त्य और पाताल (सुपा ६८) ।  
 तइलोक न [त्रैलोक्य] ऊपर देखो तइलोय } (पउम ३, १०५; ८, २०२; स ५७१; सुर ३, २०; सुपा २८२; ३५; ४४८) ।

तइस (अप) वि [ताटश] वैसा, उस तरह का (हे ४; ४०३, पइ) ।  
 तई वी [त्रयो] तीन का समुदाय (सुपा ५८) ।  
 तईअ देखो तइअ = तृतीय (गा ४११; भग) ।  
 तउ } न [त्रपु] धातु-विशेष, सीसा,  
 तउअ } रांगा (सम १२५; औप; उप ६८६ टी; महा) । °घट्टिआ वी [°पट्टिका] कान का आभूषण-विशेष (दे ५, २३) ।  
 तउस न [त्रपुप] देखो तउसी (राज) ।  
 °मिजिया वी [°मिञ्जिका] खुद कीट-विशेष, श्रोत्रिय जन्तु की एक जाति (जीव १) ।  
 तउस न [त्रपुप] खीरा, ककड़ी (दे ८, ३५) ।  
 तउसी वी [त्रपुपी] ककड़ी-बुझ, खीरा का गाछ (गा ५३४) ।  
 तए अ [ततस्] उससे, उस कारण से । २ वाद में (उत्त १; विपा १, १) ।  
 तएयारिस वि [त्वाटश] तुम जैसा, तुम्हारी तरह का (स ५२) ।  
 तओ देखो तए (ठा ३, १, प्रायु ७८) ।

तं अ [तन्] इन अर्थों को बतलानेवाला अव्यय—१ कारण, हेतु (भग १५)। २ वाक्य-उपन्यास; 'तं तिस्रसवंदिमोक्तं' (हे २; १७६; पङ्); 'तं मरणमणारंभे वि होइ, लच्छी उण न होइ' (गा ४२)। 'जहा अ [यथा] उदाहरण-प्रदर्शक अव्यय (आचा; अणु)।

तंआ देखो तथा = तदा (गउड)।

तंत न [दे] पृष्ठ, पीठ (दे ५, १)।

तंड न [दे] लगाम में लगी हुई लार। २ वि. मस्तक-रहित। ३ स्वर से अधिक (दे ५, १६)।

तंडव (अप) देखो तडुव। तंडवहु (भवि)।

तंडव अक [ताण्डवय्] नृत्य करना। तंड-वैति (आवम)।

तंडव न [ताण्डव] १ नृत्य, उद्धत नाच (प्राग्, जीव ३; सुपा ८६)। २ उद्धताई; 'पासंडितुं-उग्रइचंडतंडवाडवरेहि कि मुट्ट' (धम्म ८ टी)।

तंडविय वि [ताण्डवित] नचाया हुआ, नर्तित (गउड)।

तंडविय (अप) देखो तडुविअ (भवि)।

तंडुल पुं [तण्डुल] चावल (गा ६६१)। देखो तंडुल।

तंत न [तन्त्र] १ देश, राष्ट्र (सुर १६, ४८)। २ शास्त्र, सिद्धान्त (उवर ५)। ३ दर्शन, मत (उप ६२२)। ४ स्वदेश-चिन्ता। ५ विष का औषध विशेष (मुद्रा १०८)। ६ सूत्र, ग्रन्थांश-विशेष; 'सुत्तं भणियं तंतं भणियज्जए तम्मि व जमत्यो' (विसे)। ७ विद्या-विशेष (सुपा ४६६)। ८ ननु वि [ंज्ञ] तन्त्र का जानकार (सुपा ५७६)। ९ वाइ पुं [ंवादिन्] विद्या-विशेष से रोग आदि को मिटानेवाला (सुपा ४६६)।

तंत वि [तान्त] खिन्न, क्लान्त (खाया १, ४; विपा १, १)।

तंतडी व्री [दे] करम्ब, दही और चावल का बना भोजन-विशेष (दे ५, ४)।

तंतयग } पुं [तान्त्रयक] चतुरिन्द्रिय जंतु  
तंतयय } की एक जाति (सुख ३६, १४६; उक्त ३६, १४६)।

तंतिय पुं [तान्त्रिक] वीणा बजानेवाला (अणु)।

तंतिसम न [तन्त्रीसम] तन्त्री-शब्द के तुल्य या उससे मिला हुआ गीत, गेय काव्य का एक भेद (दसनि २, २३)।

तंती व्री [तन्त्री] १ वीणा, वाद्य-विशेष (कप्प; औप, सुर १६, ४८)। २ वीणा-विशेष (पएह २, ५)। ३ तांत, चमड़े की रस्ती (विपा १, ६; सुर ३, १३७)।

तंती व्री [दे] चिन्ता; 'कामस्स तत्तंतंति' (गा २)।

तंतु पुं [तन्तु] सूत, तागा, बागा (पउम १, १३)। ०अ, ०ग पुं [ंक] जलजन्तु-विशेष (पउम १४, १७; कुप्र २०६)। ०ज, ०य न [ंज] सूती कपड़ा (उत्त २, ३५)। ०वाय पुं [ंवाय] कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा (शा २३)। ०शाला व्री [ंशाला] कपड़ा बुनने का घर, तांत-घर (भग १५)।

तंतुक्खोडी व्री [दे] तन्तुवाय का एक उपकरण (दे ५, ७)।

तंतुल देखो तंडुल (पउम १२, १३८)। २ मत्स्य-विशेष (जीव १)। ३ वैवालयिक न [ंवाचारिक] जैन ग्रन्थ-विशेष (एंदि)।

तंतुलेज्जग पुं [तन्तुलीयक] वनस्पति-विशेष (पएण १)।

तंतूसय देखो तिटूसय (सुर १३, १६७)। तंव पुं [स्तम्ब] वृणादि का गुच्छा (हे २, ४५; कुमा)।

तंव न [ताम्र] १ वालु-विशेष, तांबा (विपा १, ६; हे २, ४५)। २ पुं. वरुण-विशेष। ३ वि. अरण्य वरुणवाला, लाल (पएण १७; औप)। ४ चूल पुं [चूड] कुक्कुट, मुर्गा (सुर ३, ६१)। ५ वण्णी व्री [ंण्णी] एक नदी का नाम (कप्प)। ६ सिंह पुं [ंशिख] कुक्कुट, मुर्गा (प्राग्)।

तंवकरोड पुंन [दे] ताम्र वरुणवाला द्रव्य-विशेष (पएण १७)।

तंवक्किमि पुं [दे] कीट-विशेष, इन्द्रगोप (दे ५, ६; पङ्)।

तंवकुसुम पुंन [दे] वृक्ष-विशेष, कुक्कुट, कटुचरैया (दे ५, ६; पङ्)।

तंवकं न [दे] वाद्य-विशेष; 'अणायतंवकंसेसु वज्जंतिसु' (तो १५)।

तंवच्छिवाडिया व्री [दे] ताम्र वरुण का द्रव्य-विशेष (पएण १७)।

तंवटकारी व्री [दे] शेफालिका; पुष्प-प्रधान लता-विशेष (दे ५, ४)।

तंवरत्ती व्री [दे] गेहूं में कुंकुम की छाया (दे ५, ५)।

तंवा व्री [दे] गौ, घेतु, गैया (दे ५, १; गा ४६०; प्राग्; वज्जा ३४)।

तंवाय पुं [तामाक] भारतीय ग्राम-विशेष (राज)।

तंविम पुंन [ताम्रत्व] अस्पृता, इपद् रक्तता (गउड)।

तंविय न [ताम्रिक] परिव्राजक का पहनने का एक उपकरण (औप)।

तंवित्र वि [दे] ताम्र वरुणवाला (हे २, ५६; गउड; भवि)।

तंवित्रा [दि] देखो तंवरत्ती (दे ५, ५)। तंवुक्क न [दे] वाद्य-विशेष; 'बुक्कतंवुक्कसदुक्कड' (सुपा ५०)।

तंवरम पुं [स्तम्बेरम] हस्ती, हाथी (उप पृ ११७)।

तंवेही व्री [दे] पुष्प-प्रधान वृक्ष-विशेष, शेफालिका (दे ५, ४)।

तंवेोल न [ताम्बूल] पान (हे १, १२४; कुमा)।

तंवेोलिअ पुं [ताम्बूलिक] १ तमोली, पान बेचनेवाला (शा १२)। २ पान में होनेवाला तंवेोलिया नाम।

तंवेोली व्री [ताम्बूली] पान का गाछ (पङ्; जीव ३)।

तंभ देखो थंभ (पङ्)।

तंस पुं [त्र्यंश] तीसरा हिस्सा (पंच ५, ३७; ३६; कम्म ५, ३४)।

तंस वि [त्र्यस्त] त्रि-कोण, तीन कोनवाला (हे १, २६; गउड; ठा १; गा १०; प्राग्; आचा)।

तकक सक [तर्क] तर्क करना, अनुमान करना, अटकल करना। तक्केमि (मै १३)। संक. तक्कियाणं (आचा)।

तकक न [तक] मट्टा छाछ (औप ८७; सुपा ५८३ उप पृ ११६)।

तक पुं [तक] १. विमर्श, विचार, अटकल-  
ज्ञान (श्रा १२; ठा ६) । २. न्याय-शास्त्र (सुपा  
२८७) ।

तकणा वी [दे] इच्छा, अभिलाष (दे ५, ४) ।  
तकय वि [तकक] तकं करनेवाला (परह  
१, ३) ।

तकर पुं [तकर] चोर (हे २, ४; औप) ।  
तकलि वी [दे] कदली-बुझ, केले का गाछ  
(आचा २; १, ८, ६) ।

तकलि } वी [दे] बलयाकार बुझ-विशेष  
तकली } (परह १) ।

तका वी [तक] देखो तक = तकं (ठा १;  
सूत्र १, १३, आचा) ।

तकाल क्रि वि [तकाल] उसी समय (कुमा) ।

तकिय वि [तकिय] तकं शास्त्र का जानकार  
(अचु १०१) ।

तकियाणं देखो तक = तकं ।

तककु पुं [तकु] सूत बनाने का यन्त्र, तकुआ,  
तकला, चरखा (दे ३, १) ।

तककुय पुं [दे] स्वजन-वर्ग, 'सम्माणिया  
सामंता, अहियादिया नायरया, परिओसिया  
तककुयजणा ति' (स ५२०) ।

तकख सक [तकख] छिलना, काटना ।  
तकखइ (पड; हे ४, १६४) । कर्म. तक्ख-  
वइ (कुप्र १७) । वक. तक्खमाण (अणु) ।

तकख पुं [ताकख] गड पत्नी (पाय) ।

तकख पुं [तकख] १ लकड़ी काटनेवाला,  
बढ़ई । २ विश्वकर्मा, शिल्पी-विशेष (हे ३,  
५६; पड) । 'सिला वी [शिला] प्राचीन  
ऐतिहासिक नगर, जो पहले बाहुबलि की  
राजधानी थी, यह नगर पंजाब में है (पउम  
४, ३८; कुप्र ५३) ।

तकखग पुं [तकख] १-२ ऊपर देखो । ३  
स्वनाम-प्रसिद्ध सर्प-राज (उप ६२५) ।

तकखण न [तकखण] १ तत्काल, उसी समय  
(ठा ४, ४) । २ क्रि. शीघ्र, तुरन्त (पाय) ।

तकखय देखो तकखग (स २०६; कुप्र  
१३६) ।

तकखाण देखो तकख = तकख (हे ३, ५६;  
पड) ।

तगर देखो टगर (परह २, ५) ।

तगरा वी [तगरा] संनिवेश-विशेष (स  
४६८)

तगरा वी [तगरा] एक नगरी का नाम (सुज  
२, ८) ।

तग न [दे] सूत्र-कंकण, धागे का कंकण  
(दे ५, १; गड) ।

तगंधिच वि [तदगन्धिक] उसके समान  
गंधवाला (प्रासू ३३) ।

तच्च वि [तृतीय] तीसरा (सम ८; उवा) ।

तच्च न [तच्च] सार, परमार्थ (आचा; आरा  
११५) । 'वाय पुं [वाद] १ तत्त्व-वाद,  
परमार्थ-वचन । २ दृष्टिवाद, जैन अंग-अंग-  
विशेष (ठा १०) ।

तच्च न [तच्च] १ सत्य, सचाई (हे ३, २१;  
उत्त २८) । २ वि. वास्तविक, सत्य (उत्त  
३) । 'थ्य पुं [थ्य] सत्य, हकीकत (पउम  
३, १३) 'वाय पुं [वाद] देखो ऊपर  
'वाय (ठा १०) ।

तच्चं अ [त्रि:] तीन बार (मंग; सुर २,  
२६) ।

तच्चित्त वि [तच्चित्त] उसी में जिसका मन  
लगा हो वह, तल्लीन (विपा १, २) ।

तच्चइ सक [तच्चइ] छिलना, काटना । तच्चइ  
(हे ४, १६४; पड) । सं. तच्चइय (सूत्र  
१, ४, १) । कवक. तच्चइजंत (सुर १,  
२८) ।

तच्चइ } वि [तच्चइ] छिला हुआ, तनुकृत;  
तच्चइअ } 'ते भिन्नदेहा फलगं तच्चइ' (सूत्र  
१, ५, २, १४; १, ४, १, २१; उत्त १६,  
६६) ।

तच्चइण वीन [तच्चइण] छिलना, कर्तन (परह  
१, १) वी. गा (याया १; १३) ।

तच्चइड वि [दे] कराल, भयंकर (दे ५,  
३) ।

तच्चइजंत देखो तच्चइ ।

तच्चइल वि [दे] तत्पर (पड) ।

तजा देखो तथा = त्वच् (दे १, १११) ।

तज सक [तज] तजं करना, भर्त्सन  
करना । तजइ (भवि) । तज्जेइ (याया १,  
१८) वक. तजंत, तजित तजयंत,  
तजमाण, तज्जेमाण (भवि, सुर १२,  
२३३; याया १, ८; राज; विपा १, १—

पत्र ११) । कवक. तजिजंत (उप पृ १३४-  
उप १४६ टी) ।

तज्जण न [तज्जण] भर्त्सन, तिरस्कार (औप;  
उव; पउम ६५, ५३) ।

तज्जणा वी [तज्जणा] ऊपर देखो (परह  
२, १; सुपा १) ।

तज्जणी वी [तज्जणी] दूसरी श्रंगुली, श्रंगुठे के  
पासवाली श्रंगुली, प्रदेशिनी (सुपा १; कुमा) ।

तज्जाय वि [तज्जाय] समान जातिवाला,  
तुल्य-जातीय (आव ४) ।

जज्जायिअ } वि [तज्जित] तजित, भर्त्सित  
तज्जिअ } (स १२२; सुपा २६३; भवि) ।

तज्जित }  
तज्जिजंत } देखो तज्ज ।  
तज्जेमाण }

तट्टवट्ट न [दे] आभरण, आभूषण;

'सरियं सरियं बालत्तणाओ

तट्टयाइं तट्टवट्टाइं ।

अवहरि वि नियवराओ

हारेइ रहम्मि किल्लंतो

(सुपा ३६६) ।

तट्टिगा वी [दे. तट्टिका] दिगंबर जैन साधु  
का एक उपकरण (धर्मसं १०४६; १०४८) ।

तट्टी वी [दे] वृत्ति, वाड (दे ५, १) ।

तट्ट वि [तट्ट] १ डरा हुआ, भीत (हे २,  
१३६; कुमा) । २ न. मुहूर्त-विशेष (सम  
५१) ।

तट्ट वि [तट्ट] छिला हुआ (सूत्र १, ७) ।

तट्टव न [तट्टव] मुहूर्त-विशेष (सम ५१) ।

तट्टि वि [तट्टि] तनुकृत, कृशतावाला (सूत्र  
१, ७, ३०) ।

तट्टि } पुं [त्वष्ट] १ तक्षक, विश्वकर्मा  
तट्टु } (गड) । २ नक्षत्र-विशेष का अवि-  
ष्टायक देव (ठा २, ३) ।

तट्टु पुं [त्वष्ट] अहोरात्र का वारहवां  
मुहूर्त (सुज १०, १३) ।

तड सक [तड] १ विस्तार करना । २  
करना । तडइ (हे ४, १३७) ।

तड पुंन [तट] किनारा, तीर (वाग्र; कुमा) ।  
'थ्य वि [स्थ] १ मध्यस्थ, पक्षपात-हीन ।  
२ समीप स्थित (कुमा; दे ३; ६०) ।

तडउडा [दे] देखो तडउडा (जीव ३;  
जं १) ।

तडकडिअ वि [दे] अतवस्वित (पड्) ।

तडकार पुं [तटकार] चमकारा, 'तडित-  
डकारो' (सुपा १३३) ।

तडतडा अक [तडतडाय्] तड-तड आवाज  
होना । वक्र. तडतडंत, तडतडंत, तड-  
तडयंत (राज; णाया १, ६; सुपा १७६) ।

तडतडा स्त्री [तडतडा] तड-तड आवाज (स  
२५७) ।

तडप्फड } अक [दे] तडफना, छटपटाना,  
तडप्फड } तडफडाना, व्याकुल होना । तड-  
प्फड (कुमा; हे ४, ३६६; विवे १०२) ।

तडफडसि (सुर ३, १४८) । वक्र. तडफडंत,  
डतफडंत (उप ७६८ टी; सुर १२, १६४;  
सुपा १७६; कुप्र २६) ।

तडफडिअ वि [दे] १ सब तरफ से चलित,  
तडफडया हुआ, व्याकुल (दे ५, ६; स  
५८६) ।

तडमड वि [दे] कुनित, क्षोभ प्राप्त (दे ५,  
७) ।

तडयड वि [दे] क्रिया-शील, सदाचार-युक्त  
(सहि १०७) ।

तडयडंत देखो तडतडा ।

तडयडा स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष, आउली का  
पेड़ (दे ५, ५) ।

तडाअ } न [तडाग] तालाब, सरोवर (गा  
तडाग } ११०; पि २३१; २४०) ।

तडि स्त्री [तडित्] विजली (पात्र) । °डंड  
पुं [°दण्ड] विद्युदंड (महा) । °केस पुं  
[°केश] राजस-वंशीय एक राजा, एक लंका-  
पति (पउम ६, ३६) । °वेअ पुं [°वेग]  
विद्यावर वंश का एक राजा (पउम ५,  
१८) ।

तडिअ वि [तत] विस्तृत, फैला हुआ (पात्र;  
णाया १, ८—पत्र १३३) ।

तडिआ स्त्री [तडित्] बीजली (ग्रामा) ।

तडिण वि [दे] विरल, अत्यल्प (से १३,  
५०) ।

तडिणी स्त्री [तडिनी] नदी, तरंगिणी  
(सण) ।

तडिम न [तडिम] १ निति, भीत । २ कुट्टिम,  
पापाण आदि से बंधा हुआ भूमितल (से २,

२) । ३ द्वार के ऊपर का भाग (से १२,  
६०) ।

तडी स्त्री [तटी] तट, किनारा (विपा १, १;  
अनु ६) ।

तडु } सक [तन्] १ विस्तार करना । २  
तडुव } करना । तडुइ, तडुवइ (हे ४, १३७) ।  
भूका—तडुवीय (कुमा) ।

तडुविअ } वि [तत] विस्तोर्ण, फैला हुआ  
तडुविअ } (पात्र; महा; कुमा; सुर ३,  
७२) ।

तडुडु स्त्री [तडु] काठ की करछी (प्राक  
२०) ।

तण सक [तन्] १ विस्तार करना । २  
करना । तणइ, तणए (पड्) । कर्म. तणि-  
जणए (विसे १३८३) ।

तण न [दे] उत्पल, कमल (दे ५, १) ।

तण न [तृण] तृण, घास (पात्र; उव) । °इळ  
वि [°वत्] तृणवाला (गडड) । °जीवि  
वि [°जीविन्] घास खाकर जीनेवाला (सुपा  
३७०) । °राय पुं [°राज] ताल-युद्ध, ताड़  
का पेड़ (गडड) । °विटय, °वेटय पुं  
[°वृन्तक] एक क्षुद्र जंतु-जाति, त्रीन्द्रिय  
जंतु-विशेष (राज) ।

तणय वि [तृणक] तृण का वना हुआ  
(आवा २, २, ३, १४) ।

तणय पुं [तनय] पुत्र, लड़का (सुपा २४७;  
४२४) ।

तणय वि [दे] संकधी, 'मह तणए' (सुर ३,  
८७; हे ४, ३६१) ।

तणयमुद्दिआ स्त्री [दे] अंगुलीयक, अंगूठी  
(दे ५, ६) ।

तणया स्त्री [तनया] लड़की, पुत्री (कुमा) ।

तणरासि } वि [दे] प्रसारित फैलाया  
तणरासिअ } हुआ (दे ५, ६) ।

तणवरंडी स्त्री [दे] डडुप, जोंगे, छोटी नौका  
(दे ५, ७) ।

तणसोळि } स्त्री [दे] १ मल्लिका, पुष्प-  
तणसोळिया } प्रधान वृक्ष-विशेष (दे ५, ६;  
णाया १, १६) । २ वि. तृण-सून्य (पड्) ।

तणहार } पुं [तृणहार] १ त्रीन्द्रिय जंतु  
तणहारय } को एक जाति (उत्त ३६,  
१३८) । २ वि. घास काटकर बेचनेवाला,  
घसियारा (अणु १४६) ।

तणिअ वि [तत] विस्तोर्ण, फैला हुआ  
(कुमा) ।

तणु वि [तनु] १ पतला (जी ७) । २ कृत्र,  
दुर्बल (पंचा १६) । ३ अल्प, थोड़ा (दे ३,  
५१) । ४ लघु, छोटा (जीव ३) । ५ सूक्ष्म  
(कम्म) । ६ स्त्री. शरीर, काय (दे २, ५६;  
जी ८) । °तणुई, तणु जी [°तन्वी]  
ईश्वरानुभवा-नामक पृथ्वी (ठा ८; इक) ।

°पज्जत्ति स्त्री [°पर्याप्ति] उत्पन्न होते समय  
जीव द्वारा ग्रहण किये हुए पुद्गलों को शरीर  
रूप से परिणत करने की शक्ति (कम्म ३,  
१२) । °डभव वि [°उद्भव] १ शरीर से  
उत्पन्न । २ पुं. लड़का (भवि) । °डभवा स्त्री  
[°उद्भवा] लड़की (भवि) । °भूपुंस्त्री  
[°भू] १ लड़का । २ लड़की (आक) । °य  
वि [°ज] देखो °डभव (उत्त १४) । °रुह  
पुंन [°रुह] १ केरा, बाल (रंभा) । २ पुं-  
पुत्र, लड़का (भवि) । °वाय पुं [°वात]  
सूक्ष्म वायु-विशेष (ठा ३, ४) ।

तणुअ वि [तनुक] ऊपर देखो (पउम १६,  
७; आवा ५; भा १५; पात्र) ।

तणुअ सक [तनय्] १ पतला करना । २  
कृश करना, दुर्बल करना । तणुएइ (गा ६१;  
काप्र १७४) ।

तणुआ } अक [तनुकाय्] दुर्बल होना,  
तणुआअ } कृश होना । तणुआइ, तणुआ-  
अइ, तणुआअए (गा ३०; २६२, ५६) वक्र.  
तणुआअंत (गा २६८) ।

तणुआअरअ वि [तनुत्कारक] कृशता  
उपजानेवाला, दौर्बल्य-जनक (गा ३४८) ।

तणुइअ वि [तनूकृत] दुर्बल किया हुआ,  
कृश किया हुआ (गा १२२; पउम १६, ४) ।

नणुई स्त्री [तन्वी] १ पृथ्वी-विशेष, सिद्ध-  
शिला (सम २२) । २ पतला शरीरवाली,  
कृशांगी, कोमलांगी स्त्री (पड्) ।

तणुईकय वि [तनूकृत] पतला किया हुआ  
(पात्र) ।

तणुग देखो तणुअ (जं २; ३) ।

तणुज देखो तणु-य (धर्मवि १२८) ।

तणुजम्म पुं [तनुजम्मन्] पुत्र, लड़का  
(धर्मवि १४८) ।

तणुभव देखो तणु-डभव (धर्मवि १४२) ।

तणुवी } देखो तणुई (हे २, ११३;  
तणुवीआ } (कुमा) ।

तणू वी [तन्] शरीर काया (गा ७८;  
पात्र; दं ५) । २. ईपदप्राभारा-नामक पृथिवी  
(ठा ८) । °अ वि [°ज] १ शरीर से  
उत्पन्न । २ पुं. लड़का, पुत्र (उप ६८६) ।  
°अतरा वी [°कतरा] ईपदप्राभारा-नामक  
पृथिवी; जिसपर मुक्त जीव रहते हैं, सिद्ध-  
शिला (सम २२) । °रुह पुंन [°रुह] केश,  
रोम, बाल (उप ५६७ टी) ।

तणूइय देखो तणुइअ (गडड) ।  
तणेण (अप) अ. लिए, वास्ते (हे ४, ४२५;  
कुमा) ।

तणेसि पुं [दे] तृण-राशि (दे ५, ३, पड) ।  
तण्णय पुं [तण्णक] बत्स, बट्टड़ा (पात्र; गा  
१६; गडड) ।

तण्णाय वि [दे] आद्र, गोला (दे ५, २;  
पात्र; गडड; से १, ३१; ११, १२६) ।

तण्हा वी [तृष्णा] १ व्यास, पिपासा  
(पात्र) । २ स्था, वाग्द्व, इच्छा (ठा २, ३;  
श्रौप) । °लु, °लुअ वि [°वत्] तृष्णा-  
वाला, प्यासा; 'समरतएहालू' (पसम ८, ८७;  
८, ४७) ।

तण्हाइअ वि [तृष्णित] तुपातुत् अति प्यासा  
(वर्मवि १४१) ।

तत देखो तय = तत (ठा ४, ४) ।

तत्त न [तत्त्व] सत्य स्वल्प, तथ्य, परमायं  
(उप ७२८ टी; पुष्प ३२०) । °ओ अ  
[°तस्] वस्तुतः (उप ६८६) । °ण्णु वि  
[°ज्] तत्व का जानकार (पंचा १) ।

तत्त पुं [तत्त] १ तीसरी नरक-भूमि का एक  
नरक-स्थान (देवेन्द्र ८) । २ प्रथम नरक-  
भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ४) ।

तत्त वि [तत्त] गरम किया हुआ (सम १२५;  
विपा १, ६; दे १, १०५) । °जला वी  
[°जला] नदी-विशेष (ठा २, ३) ।

तत्त अ [तत्त] वहाँ । °भव, °होत वि  
[°भवत्] पूज्य ऐसे आप (पि २६३;  
श्रमि ५६) ।

तत्तटुसुत्त न [तत्त्वार्थसूत्र] एक प्रसिद्ध जैन  
दर्शन-ग्रन्थ (श्रमक ७७) ।

तत्तडिअ न [दे] रंगा हुआ कपड़ा (गच्छ  
२, ४६) ।

तत्ति वी [तृप्ति] तृप्ति, संतोष (कुमा, कव  
२६) । °ल वि [°मत्] तृप्ति-युक्त,  
तृप्त, संतुष्ट (राज) ।

तत्ति वी [दे] १ आदेश, हुकुम (दे ५, २०;  
सण) । २ तत्परता (दे २०) । ३ चिन्ता,  
विचार (गा २; ५१; २७३ म; सुपा २३७;  
२८०) । ४ वार्ता, बात (गा २; वज्जा २) ।  
५ कार्य, प्रयोजन (पएह १, २; वव १) ।

तत्तिय वि [तावत्] उत्तना (प्रासू १५६) ।  
तत्तिल वि [दे] तत्पर (पड; दे ५, ३;  
तत्तिल) गा ५५७; प्रासू ५६) ।

तत्तु (अप) देखो तत्थ = तत्र (हे ४, ४०४;  
कुमा) ।

तत्तुडिल न [दे] सुरत, संभोग (दे ५, ६) ।  
तत्तुरिअ वि [दे] रजित (पड) ।

तत्तो देखो तओ (कुमा; जी २६) । °मुह  
वि [°मुख] जिसका मुँह उस तरफ हो वह  
(सुर २, २३४) ।

तत्तोहुत्त न [दे] तदभिमुख, उसके सामने  
(गडड) ।

तत्थ अ [तत्र] वहाँ, उसमें (हे २, १६१) ।  
°भव वि [°भवत्] पूज्य ऐसे आप (पि  
२६३) । °थ वि [°त्य] वहाँ का रहनेवाला  
(उप ५६७ टी) ।

तत्थ वि [त्रस्त] भौत, डरा हुआ (हे २, १६१;  
कुमा) ।

तत्थ देखो तच्च = तथ्य (वर्मसं ३०४; एंदि  
५३) ।

तत्थरि पुं [त्रस्तरि] नय-विशेष; 'तत्थरिनएण  
ठविआ सोहउ मज्जक थुई' (श्रच्छु ४) ।

तदा देखो तया = तदा (गा ६६६) ।  
तदीय वि [त्वदीय] तुम्हारा (महा) ।  
तदो देखो तओ (हे २, १६०) ।

तदीअचय न [दे] नृत्य, नाच (दे ५, ८) ।  
तद्दिअस न [दे] प्रतिदिन, अनुदिन,  
तद्दिअसिअ हररोज (दे ५, ८; गडड;  
तद्दिअह) पात्र) ।

तद्दोसि देखो त-दोसि = त्वदोपिन् ।

तद्दिय पुं [तद्दित] १ व्याकरण-प्रसिद्ध  
प्रत्यय-विशेष (पएह २, २; विसे १००३) ।

२ तद्दित प्रत्यय की प्राप्ति का कारण-भूत  
अर्थ (अणु) ।

तथा देखो तदा (ठा ३, १; ७) ।  
तन्नय देखो तण्णय (सुर १४, १७४) ।  
तन्हा देखो तण्हा (सुर १, २०३; कुमा) ।

तप देखो तय = तपस् (चंड) ।  
तप्प सक [तप्] १ तप करना । २ अक,  
गरम होना । तप्पइ, तप्पति (पिग; प्रासू  
५३) ।

तप्प सक [तर्पय्] तृप्त करना । वक्र,  
तप्पमाण (सुर १६, १६) । हेक, 'न इमो  
जीवो सको तप्पेउं कामभोगेहि' (आउ ५०) ।  
क. तप्पेयव्व (सुपा २३२) ।

तप्प न [तल्प] शय्या, विछौना (पात्र) ।  
°अ वि [°ग] शय्या पर जानेवाला, सोने-  
वाला (पएह १, २) ।

तप्प पुंन [तप्र] डोंगी, छोटी नौका (पएह  
१, १; विसे ७०६) ।

तप्प पुंन [तप्र] नदी में दूर से बहकर आता  
हुआ काष्ठ-समूह (एंदि ८८ टी) ।

तप्पक्खिअ वि [तत्पाक्षिक] उस पक्ष का  
(आ १२) ।

तप्पज्ज न [तात्पर्य] तात्पर्य, मतलब (राज) ।

तप्पण न [तर्पण] १ सक्क, सतुआ, सत्तू (पएह  
२, ५) । २ छीन. तृप्ति-करण, प्रीएण (सुपा  
११३) । ३ स्निग्ध वस्तु से शरीर को मालिश  
(एणया १, १३) ।

तप्पणग न [दे] जैन साधु का पात्र-विशेष,  
तत्पणी (कुलक १०) ।

तप्पणाडुआलिआ वी [दे] सक्तुमिश्रित  
भोजन (दश वे० चू०, वसुदेवहिंडी, वम्मि-  
लहिंडी) ।

तप्पभिइं अ [तत्प्रभृति] तबसे, तबसे लेकर  
(कण; एणया १, १) ।

तप्पमाण देखो तप्प = तर्पय् ।

तप्पर वि [तत्पर] आसक्त (दे ५, २०) ।

तप्पुरिस पुं [तत्पुरुष] व्याकरण-प्रसिद्ध  
समात-विशेष (अणु) ।

तप्पेयव्व देखो तप्प = तर्पय् ।

तन्मत्तिय वि [तद्भक्तिक] उसका सेवक  
(मग ५, ७) ।

तन्मय पुं [तद्भव] वही जन्म, इस जन्म के समान पर-जन्म। °भरण न [°भरण] वह भरण, जिसमें इस जन्म के समान ही परलोक में भी जन्म हो, यहाँ मनुष्य होने से आगामी जन्म में भी जिससे मनुष्य हो ऐसा भरण (भग २१, १)।  
 तन्भारिय पुं [तद्भार्य] दास, नौकर, कर्म-चारी, कर्मकर (भग ३, ७)।  
 तन्भारिय पुं [तद्भारिक] ऊपर देखो (भग ३, ७)।  
 तन्भूम वि [तद्भूम] उसी भूमि में उत्पन्न (बृह १)।  
 तन्भक्ति अ [दि] शोध, जल्दी (प्राह ८२)।  
 तन्म अक [तम्] १ खेद करना। २ सक. इच्छा करना। तन्मइ (प्राह. ६६)।  
 तन्म पुं [दि] शोक, अफसोस (दे ५, १)।  
 तन्म पुंन [तन्मस्] १ अन्वकार। २ अज्ञान (हे १, ३२; पि ४०६; श्रौम; वर्म २)।  
 °तन्म पुं [°तन्म] सातवीं नरक-शुश्रूषा का जीव (कम्म ५; पंच ५)। °तन्मप्यभा लो [तन्मप्रभा] सातवीं नरक-शुश्रूषा (अणु)।  
 °तन्मा लो [°तन्मा] सातवीं नरक-शुश्रूषा (सम ६६; ठा ७)। °तन्मिर न [°तन्मिर] १ अन्वकार (बृह ४)। २ अज्ञान (पडि)। ३ अन्वकार-समूह (बृह ४)। °तन्मभा लो [°तन्मभा] छठवीं नरक-शुश्रूषा (पण्य १)।  
 तन्मंग पुं [तन्मङ्ग] मतवारण, घर का वरण्डा, छत्रा (सुर १३, १५६)।  
 तन्मन्धयार पुं [तन्मन्धकार] प्रबल अन्वकार (पउम १७, १०)।  
 तन्मण न [दि] चूल्हा, जिसमें आग रखकर खोई की जाती है वह (दे ५, २)।  
 तन्मणि पुंल्लो [दि] १ भुज, हाथ। २ मूज, वृज-विशेष की छाल, भोजपत्र (दे २, २०)।  
 तन्मय पुं [तन्मय] १ चीया नरक का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र १०)। २ पाँचवीं नरक-भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ११)।  
 तन्मस न [तन्मस्] अन्वकार, 'तन्मसाउ मे दिता व' (पउम ३६, ८)।  
 तन्मस वि [तन्मस] अन्वकारवाला (दस ५, १, २०)।

तन्मस देखो तन्म = तन्मस्; 'अंतरिप्रो वा तन्मसे वा न वंदई वंदई उ दीसंतो' (पत्र २)।  
 तन्मसई लो [तन्मस्यतो] घोर अन्वकारवाली रात (बृह १)।  
 तन्मा लो [तन्मा] १ छठवीं नरक-शुश्रूषा (सम ६६; ठा ७)। २ अयोदिशा (ठा १०)।  
 तन्माउ सक [तन्मन्] चुनाना, फिराना। तन्माउइ (हे ५, ३०)। वृह. तन्माउत (कुमा)।  
 तन्माल पुं [तन्माल] १ वृज-विशेष (उप १०३१ टी; भत ४२)। २ न. तन्माल वृज का फूल (से १, ६३)।  
 तन्मिस पुं [तन्मिस] पाँचवाँ नरक का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ११)।  
 तन्मिस न [तन्मिस] १ अन्वकार (सूय १, ५, १)। °तन्मा लो [°तन्मा] गुफा-विशेष (इक)।  
 तन्मिसंधयार पुं [तन्मिसान्धकार] प्रबल अन्वकार, घोर अंधेरा (सूय १, ५, १)।  
 तन्मिरल देखो तन्मिस (दे २, २६)।  
 तन्मी लो [तन्मी] रात्रि, रात (गउड)।  
 तन्मुक्काय देखो तन्मुक्काय (भग ६, ५—पत्र २, ६८)।  
 तन्मुक्काय पुं [तन्मुक्काय] अंधकार-प्रचय (ठा ५, २)।  
 तन्मुय वि [तन्मुस्] १ जन्मान्ध, जात्यन्ध। २ अत्यन्त अज्ञानी (सूय २, २)।  
 तन्मोकसिय वि [तन्मोकसिपिक] प्रच्छन्न क्रिया करनेवाला (सूय २, २)।  
 तन्मस अक [तम्] खेद करना। (गा ४८३)।  
 तन्मस देखो तन्म = तन्म। तन्मसइ (प्राह. ६६)।  
 तन्मसण वि [तन्मस] तल्लीन, तथित्त (विपा १, २)।  
 तन्मसय वि [तन्मसय] १ तल्लीन, तत्पर। २ उसका विकार (पण्य १, १)।  
 तन्मिस न [दि] वृत्त, कपड़ा (गउड)।  
 तन्मिसर वि [तन्मिस] खेद करनेवाला (गा ५८६)।  
 तन्मि वि [तन्मि] विस्तार-युक्त (दे १, ४६; से २, ३१; महा)। २ न. वायु-विशेष (ठा २, २)।

तन्म न [तन्म] तीन का समूह, त्रिक; 'काल-तए वि न मय' (चउ ४५; श्रा २८)।  
 तन्म देखो तन्मा = तन्मा। °तन्मिइ अ [°तन्मिति] तन्मि (स ३१६)।  
 तन्म देखो तन्मा = तन्म। °तन्माय वि [°तन्माय] तन्मा को सानेवाला (ठा ४, १)।  
 तन्मा अ [तन्मा] उज समय (कुमा)।  
 तन्मा लो [तन्म] १ तन्मा, छान, चमड़ी (सम ३६)। २ दालचोनी (भत ४१)। °तन्मि वि [°तन्मि] तन्मा वाला (शाया १, १)। °तन्मि पुं [°तन्मि] सपं की एक जाति (जीव १)।  
 तन्माणंतर न [तन्मन्तर] उत्तरे बाद (श्रीव)।  
 तन्माणि अ [तन्मानाम्] उस समय (पि तन्माणि) ३५८; हे १, १०१)।  
 तन्माणुग वि [तन्मणुग] उत्तका अनुसरण करनेवाला (सूय १, १, ४)।  
 तन्म अक [तन्म] कुशल रहना, नोरोग रहना। तन्मइ (पिड ४१७)।  
 तन्म अक [तन्म] धरा होना, जल्दी होना, तेज होना। तन्म (विसे २६०१)।  
 तन्म अक [तन्म] समर्थ होना, सकना। तन्मइ (हे ५, ८६)। वृह. तन्मंत (श्रीव ३२४)।  
 तन्म सक [तन्म] तेरना, तरइ (हे ५, ८६)। कर्म. तरइजइ, तीरइ (हे ४, २५०; गा ७१)। वृह. तरंत, तरमाण (पात्र; मुपा १८२)। हेह. तरिइं तरीइं (शाया १, १४; हे २, १६८)। वृ. तरिअव्य (श्रा १२; मुपा २७६)।  
 तन्म न [तन्मस्] १ वेग। २ वल, पराक्रम। °तन्मि वि [°तन्मि] १ वेगवाला। २ वल-वाला। °तन्मिहायण वि [°तन्मिहायण] तन्मण, युवा (श्रीव)।  
 तरंग पुं [तरङ्ग] १ कल्लोल, चीन्चि, लहर (पण्य १, ३; श्रीव)। °तन्मण न [°तन्मण] वृष-विशेष (दंस ३)। °तन्मि पुं [°तन्मि] समुद्र, सागर (पात्र)। °तन्मि लो [°तन्मि] १ एक नायिका। २ कथा-त्रय-विशेष (दंस ३)।  
 तरंगलोल लो [तरङ्गलोल] वष्यमद्विपुरि-कृत एक अद्भुत प्राकृत जैन कथा-त्रय (सम्मत १३८)।

तरंगि वि [तरङ्गिन्] तरंग-युक्त (गउड; कप्प)।  
 तरंगिअ वि [तरङ्गित] तरंग-युक्त (गउड; से ८, ११; सुपा १५७)।  
 तरंगिणी स्त्री [तरङ्गिणी] नदी, सरिता (प्रासू ६६; गउड; सुपा ५३८)।  
 तरंगिणीनाह पुं [तरङ्गिणीनाथ] समुद्र, सागर (वज्जा १५६)।  
 तरंड } पुंन [तरण्ड, °क] डोंगी, नौका  
 तरंडय } (सुपा २७२; ५००; सुर ८, १०६; पुष्क १०५)।  
 तरग वि [तर, °क] तैरनेवाला, तैराक (ठा ४, ४)।  
 तरच्छ पुंन [तरक्ष] श्रापद जन्तु-विशेष, व्याघ्र की एक जाति (पएह १, १, एयाया १, १; स २५७)। स्त्री. °च्छी (पि १२३)।  
 °भल्ल पुंन [°भल्ल] श्रापद जन्तु-विशेष (पउम ४२, १२)।  
 तरट्ट वि [दे] प्रगल्भ, घृष्ट, समर्थ, चतुर, हानिरजवाव 'तरट्टो' (प्राक ३८)।  
 तरट्टा } स्त्री [दे] प्रगल्भ स्त्री, प्रौढा नायिका,  
 तरट्टी } होशियार स्त्री; 'भाषेण ट्टुदि चिरं  
 तरणी तरट्टी' (कप्प; काप्र ५६६); 'अट्टेव  
 आगयाओ तहएतरट्टाओ एयाओ' (सुपा ४२)।  
 तरण न [तरण] १ तेरना (था १४; स ३५६; सुपा २६२)। २ जहाज, नौका (विसे १-२७)।  
 तरणि पुं [तरणि] १ सूर्य, रवि (कुमा)।  
 २ जहाज, नौका। ३ शुकुमारी का पेड़, धौकुंधार का पेड़। ४ अर्क वृक्ष, अर्कवन वृक्ष (हे १, ३१)।  
 तरतम वि [तरतम] न्यूनाधिक, 'तरतम-जोगजुत्तहि' (कप्प)।  
 तरमाण देखो तर = तृ।  
 तरल वि [तरल] चंचल, चपल (गउड; पात्र; कप्प; प्रासू ६६; सुपा २०४; सुर २, ८६)।  
 तरल सक [तरलय्] चंचल करना, चलित करना। तरलेइ (गउड)। वक्र, तरलंत (सुपा ४७०)।  
 तरलण न [तरलन्] तरल करना, हिलाना; 'करणडीणं कुणंता कुरलतरलय्' (कप्प)।  
 तरलाधिअ वि [तरलित] चंचल किया हुआ, चलायमान किया हुआ (गउड; भवि)।

तरलि वि [तरलिन्] हिलानेवाला (कप्प)।  
 तरलिअ वि [तरलित] चंचल किया हुआ (गा ७८; उप पृ ३३; साधं ११५)।  
 तरवट्ट पुं [दे] वृक्ष-विशेष, चक्रवट्ट, पमाड, पवार (दे ५, ५; पात्र)।  
 तरस न [दे] मांस (दे ५, ४)।  
 तरसा अ [तरसा] शीघ्र, जल्दी (सुपा ५८२)।  
 तरा स्त्री [त्वरा] जल्दी, शीघ्रता (पात्र)।  
 तरिअव्य देखो तर = तृ।  
 तरिअव्य न [दे] उड्डुप, एक तरह की छोटी नौका (दे ५, ७)।  
 तरिउ वि [तरीवृ] तैरनेवाला (विसे १०२७)।  
 तरिउ देखो तर = तृ।  
 तरिया स्त्री [दे] दूध आदि का सार, मलाई (प्रासू ३३)।  
 तरिहि अ [तर्हि] तो, तब (सुर १, १३२; ११, ७१)।  
 तरी स्त्री [तरी] नौका, डोंगी (सुपा १११; दे ६, ११०; प्रासू १४६)।  
 तरु पुं [तरु] वृक्ष, पेड़, गाछ (जी १४; प्रासू २६)।  
 तरुण वि [तरुण] जवान, मध्य वयवाला (पउम ५, १६८)।  
 तरुण ग वि [तरुणक] बालक, किशोर तरुणय } (सूत्र १, ३, ४)। २ नवीन, नया (भाग १५)। स्त्री. °णिगा, °णिया (आचा २, १)।  
 तरुणरहस पुंन [दे] रोग, बीमारी (श्रीघ १३६)।  
 तरुणिमः पुंन [तरुणिमन्] यौवन, जवानी (कप्प)।  
 तरुणी स्त्री [तरुणी] युवति स्त्री, जवान स्त्री (गउड; स्वप्न ८२; महा)।  
 तल सक [तल्] तलना; भुजना, तेल आदि में भुनना। तलेज्जा (पि ४६०)। वक्र, तलंत (विपा १, ३)। हेक. तलिज्जिउं (स २५८)।  
 तल न [दे] १ शय्या, विछौना (दे ५, १६; पड्)। २ पुं. ग्रामेश, गाँव का मुखिया (दे ५, १६)।  
 तल पुं [तल] १ वृक्ष-विशेष, ताड़ का पेड़ (एयाया १, १ टी—पत्र ४३; पउम ५३,

७६)। २ न, स्वरूप; 'धरणिंतलंति' (कप्प), 'कासवितलमि' (कुमा)। ३ हथेली (जं १)।  
 ४ तला, भूमिका; 'सत्तले पासाए' (सुर २, ८१)। ५ अयोभाग; नीचे (एयाया १, २)। ६ हाथ, हस्त (कप्प; पएह २, ५)।  
 ७ मध्य खण्ड (ठा ८)। ८ तलवा, पानी के नीचे का भाग या सतह (पएह १, ३)। °ताल पुंन [°ताल] १ हस्त-ताल, ताली। २ वाद्य-विशेष (कप्प)। °पहार पुं [°प्रहार] तमाचा, चपेटा (दे)। °भंगय न [°भङ्गक] हाथ का आभूषण-विशेष (श्रीप)। °वट्ट न [°पट्ट] विछौने की चट्ट (वज्जा १०४)। °वट्ट न [°पत्र] ताड़ वृक्ष का पत्ता (वज्जा १०४)।  
 तल पुंन [तल] १ वाद्य-विशेष (राय ४६)। २ हथेली; 'अयमाउसो करतले' (सूत्र २, १, १६)। ताल वृक्ष की पत्ती (सूत्र १, ५, १२)। °वर पुं [°वर] राजा ने प्रसन्न होकर जिसको रत्न-जडित सोते का पट्टा दिया हो वह (अणु २२)।  
 तलअंट सक [अम] भ्रमण करना, घुमना, फिरना। तलअंटइ (हे ४, १६१)।  
 तलआगत्ति पुं [दे] कूप, झनारा (दे ५, ८)।  
 तलओडा स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष (पएण १)।  
 तलेण न [तलन] तलना; भर्जन (पएह १, १)।  
 तलप्प अक [तप्] तपना; गरम होना। तलप्पइ (पिग)।  
 तलप्पफल पुं [दे] शालि, ब्रीहि, घान (दे ५, ७)।  
 तलवत्त पुं [दे] १ कान का आभूषण-विशेष (दे ५, २१; पात्र)। २ वराण, उत्तमांग (दे ५, २१)।  
 तलवर पुं [दे. तलवर] नगर-रक्षक, कोतवाल (एयाया १, १; सुपा ३; ७३; श्रीप; महा; ठा ६; कप्प; राय; अणु; उवा)।  
 तलविट } न [तालवृन्त] व्यजन, पंखा (हे  
 तलवैट } १, ६७; प्राप्र)।  
 तलसारिअ वि [दे] १ गालित। २ मुग्ध, मूर्ख (दे ५, ६)।



तलहट्ट सक [सिच्] संचना । तलहट्टइ, तलहट्टए (सुपा ३६३) । वक्र. तलहट्टंत (सुपा ३६३) ।

तलहट्टिया ली [दे] पर्वत का मूल, पहाड़ के नीचे की भूमि; तलहटी, तराई; गुजराती में—'तलेटी' (सम्मत १३७) ।

तलाई ली [तडागिका] छोटा तालाव (कुमा) ।

तलाग } न [तडाग] तालाव, सरोवर (श्रौप; तलाय } हे १, २०३; प्राप्र; णाया १, ८; उव) ।

तलार पुं [दे] नगर-रक्षक, कोतवाल (दे ५, ३; सुपा २२३; ३६१; पड; कुप्र १५५) ।

तलारकख पुं [दे-तलारक्ष] ऊपर देखो (श्रा १२) ।

तलाव देखो तलाग (उवा; पि २३१) ।

तलिअ वि [तलित्त] भूना हुआ, तला हुआ (विपा १, २) ।

तलिआ } न [दे] उपानह, जूता, (श्रौष तलिगा } ३६; ६८; वृह १) ।

तलिण वि [तलिन] १ प्रतल, सूक्ष्म, बारीक (पएह १, ४; श्रौप; दे ५, ६) । २ तुच्छ, क्षुद्र (से १०, ७) । ३ दुर्बल (पात्र) ।

तलिम पुंन [दे] १ शय्या, विद्यौना (दे ५, २०; पात्र; णाया १, १६—पत्र २०१; २०२; गडड) । २ कुट्टिम, फरस-वाद्य जमीन (दे ५, २०; पात्र) । ३ घर के ऊपर की भूमि । ४ वास-भवन, शय्या-गृह । ५ ब्राह्म, भूतने का भाजन—वरतन (दे ५, २०) ।

तलिमा ली [तलिमा] वाद्य-विशेष (विते ७८ टी, एंदि टी) ।

तलुण देखो तरुण (णाया १, १६; राय; वा १५) ।

तलेर [दे] देखो तलार (भवि) ।

तल्ल न [दे] १ पल्लव, छोटा तालाव (दे ५, १६) । २ तरुण-विशेष, बरु (दे ५, १६; पएह २, ३) । ३ शय्या, विद्यौना (दे ५, १६; पड) ।

तल्लक पुं [तल्लक] सुरा-विशेष (राज) ।

तल्लड न [दे] शय्या, विद्यौना (दे ५, २) ।

तल्लिच्छ वि [दे] तल्लर, तल्लीन, (दे ५, ३; सुर १, १३; पात्र) ।

तल्लेस } वि [तल्लेश्य] उसी में जिसका तल्लेस्स } अर्थव्यसाय हो, तल्लीन, तदासक्त विपा १, २; राज) ।

तल्लोचिल्लि ली [दे] तडफडना तडफना, व्याकुल होना; 'बोडइ जलि जिम मच्छलिया तल्लोचिल्लि करंत' (कुप्र ८६) ।

तव अक [तप्] १ तपना, गरम होना । २ सक. तपश्चर्या करना । तवइ (हे १, १३१; गा २२४) । भूका. तविसु (भग) । वक्र. तवमाण (श्रा २७) ।

तव सक [तापय्] गरम करना । तवेइ (भग) ।

तव पुंन [तपस्] तपस्या, तपश्चर्या (सम ११; नव २६; प्रासू २८) । °गच्छ पुं [गच्छ] जैन मुनियों की एक शाखा, गण-विशेष (संति १४) । °गण पुं [°गण] पूर्वोक्त ही अर्थ (द्र ७०) । °चरण, °चरण न [°चरण] १ तपश्चर्या, तपः-करण (सूत्र १, ५, १; उप पृ ३६०; अग्नि १४७) । २ तप का फल, स्वर्ग का भोग (णाया १, ६) । °चरणि वि [°चरणिन्] तपस्या करनेवाला (ठा ५, ३) । देखो तयो° ।

तव देखो थव (हे २, ४६; पड) ।

तव देखो थुण । तवइ (प्राकृ ६७) ।

तवग्ग पुं [तवर्ग] 'त' से लेकर 'न' तक पांच अक्षर । °पविभन्ति न [°प्रविभक्ति] नाट्य-विशेष (राय) ।

तवण पुं [तपन] १ मूयं सूरज (उप १०३१ टी; कुप्र २१५) । २ रावण का एक प्रधान सुभट (से १३, ८५) । ३ न. शिखर-विशेष (दीव) ।

तवण पुं [तपन] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ८) । °तणया ली [तनया] तापी नदी (हम्मौर १५) ।

तवणा ली [तपना] आतापना (सुपा ४१३) ।

तवणिज्ज न [तपनीय] सुवर्ण, सोना (पएह १, ४; सुपा ३६) ।

तवणिज्ज पुंन [तपनीय] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३२) ।

तवणी ली [दे] १ भक्ष्य, भक्षण-योग्य कण आदि (दे ५, १; सुपा ५४८; वज्जा ६२) ।

२ वाच्य को खेत से काटकर भक्षण योग्य बनाने की क्रिया (सुपा ५४६) । ३ तवा, पूथा आदि पकाने का पात्र (दे २, ५६) ।

तवणीय देखो तवणिज्ज (सुपा ४८) ।

तवमाण देखो तव = तप ।

तवय वि [दे] व्यापृत, किसी कार्य में लगा हुआ (दे ५, २) ।

तवय पुं [तपक] तवा, भूतने का भाजन (विपा १, ३; सुपा ११८; पात्र) ।

तवसि देखो तवरिस; 'पयमित्तिप न कप्पइ इत्तो तवसीण जं गंतुं' (धर्मवि ५३; १६) ।

तवस्सि वि [तपस्विन्] १ तपस्या करनेवाला (सम ५१; उप ८३ टी) । २ पुं, साधु, मुनि, ऋषि (स्वप्न १८) ।

तविअ वि [तप्त] तपा हुआ, गरम (हे २, १०५; पात्र) ।

तविअ वि [तापित] १ गरम किया हुआ । २ संतापित; 'एयाए को न तविअो, जयस्मि लच्छोए सच्छंद' (सुपा २०४; महा; पिग) ।

तविअ वि [तपित] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ८) ।

तविआ ली [तापिका] तवा का हाथा (दे १, १६३) ।

तवु देखो तउ (पठम ११८, ८) ।

तयो देखो तथो (रंभा) ।

तयो° देखो तव = तपस् । °कम्म न [°कर्मन्] तपः-करण (सम ११) । °धण पुं [°धन] ऋषि, मुनि (प्राह) । °धर पुं [°धर] तपस्वी, मुनि (पठम २०, १६५; १०३, १०८) । °वण न [°वन्] ऋषि का आश्रम (उप ७४५; स्वप्न १६) ।

तव्यणिय वि [दे] सौगत, बौद्ध, बुद्ध-दर्शन का अनुयायी; 'तव्यणियाण वियं विसयसुह-कुसत्यभावणापरिणयं' (विते १०४१) ।

तव्यत्रिग वि [दे: तृतीयवर्णिक] तृतीय आश्रम में स्थित (उप पृ २६८) ।

तव्विह वि [तद्विह] उसी प्रकार का (भग) ।

तस अक [तस्] डरना, घास पाना । तसइ (हे ४, १६८) । छ. तसियव्व (उप ३३६ टी) ।

तस पुं [तस] १ स्पर्श-इन्द्रिय से अधिक इन्द्रियवाला जीव, द्वीन्द्रिय आदि प्राणी (जीव

१; जी २) । २ एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने-आने की शक्तिवाला प्राणी (निचू १२) । °काइय पुं [°कायिक] जंगम प्राणी, द्वीन्द्रियादि जीव (परह १, १) । °काय पुं [°काय] १ वस-समूह (ठा २, १) । २ जंगम प्राणी (आचा) । °णाम, °नाम न [°नामन्] कर्म-विशेष, जिसके प्रभाव से जीव वसकाय में उत्पन्न होता है (कम्म १; सम ६७) । °रेणु पुं [°रेणु] परिमाण-विशेष, वत्तीस हजार सात सौ अड़सठ परमाणुओं का एक परिमाण (अणु, पव २५४) । °वाइया स्त्री [°पादिका] त्रिन्द्रिय जन्तु-विशेष (जीव) ।

तसण न [त्रसन] १ स्पन्दन, चलन, हिलन (राज) । २ पलायन (सूअ १, ७) ।

तसनाडी स्त्री [त्रसनाडी] वस जीवों के रहने का प्रदेश, जो ऊपर-नीचे मिलाकर चौदह रज्जू परिमित है (पव १४३) ।

तसर देखो टसर (कप्पु) ।

तसिअ वि [दे] शुष्क, सूखा (दे ५, २) ।

तसिअ वि [तृपित] तृपातुर, पिपासित, प्यासा हुआ (रयण ८४) ।

तसिअ वि [त्रसज] नीत, डरा हुआ (जीव ३; महा) ।

तसियव्व देखो तस = वस ।

तसेयर वि [त्रसेतर] एकेन्द्रिय जीव, स्थानर प्राणी (सुपा १६८) ।

तह अ [तथा] १ उसी तरह (कुमा; प्रासू १६; स्वप्न १०) । २ और, तथा (हे १, ६७) । ३ पाद-भूति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय (निचू १) । °कार पुं [°कार] 'तथा' शब्द उच्चारण (उत्त २६) । °णाण वि [°ज्ञान] प्रश्न के उत्तर को जाननेवाला (ठा ६) । २ न. सत्य ज्ञान (ठा १०) । °त्ति अ [इति] स्वीकार-द्योतक अव्यय—वैसा ही (जैसा आप फरमाते हैं) (णया १, १) । °य अ [°च] १ उक्त अर्थ की दृढ़ता-सूचक अव्यय । २ समुच्चय-सूचक अव्यय (पंचा २) । °वि अ [°पि] तो भी (गउड) । °विह वि [°विध] उस प्रकार का (सुपा ४५६) । देखो तहा ।

तह वि [तथ्य] तथ्य, सत्य, सच्चा (सूअ १, १३) ।

तह पुं [तथ] आजाकारक, दास, नौकर (ठा ४, २—पत्र २१३) ।

तह न [तथ्य] १ स्वभाव, स्वरूप तहीय (सूअनि १२२) । २ सत्य वचन (सूअ १, १४, २१) ।

तह देखो तह = तथा (श्रौप) ।

तहरी स्त्री [दे] पङ्कवाली सुरा (दे ५, २) ।

तहल्लिआ स्त्री [दे] गो-वाट, गौओं का बाड़ा, गोशाला (दे ५, ८) ।

तहा देखो तह = तथा (कुमा; गउड; आचा; सुर ३, २७) । °गय पुं [°गत] १ मुक्त आत्मा । २ सर्वज्ञ (आचा) । °भूय वि [°भूत] उस प्रकार का (पउम २२, ६५) । °रुव वि [°रूप] उस प्रकार का (भाग १५) । °वि वि [°वित्] १ निपुण, चतुर २ पुं. सर्वज्ञ (सूअ १, ४, १) । °हि अ [°हि] वह इस प्रकार (उप ६८६ टी) ।

तहि देखो तह = तथा (गा ८७८; उत्त ६) ।

तहि } अ [तत्र] वहाँ, उसमें (गा २०६; तहि } प्राप्र; गा २३४, ऊह १०५) ।

तहिय वि [तथ्य] सत्य, सच्चा, वास्तविक (णया १, १२) ।

तहियं अ [तत्र] वहाँ, उसमें (विसे २७८) ।

तहेय } अ [तथैव] उसी तरह, उसी प्रकार तहेय } (कुमा; पड) ।

ता अ [तद्] उससे, उस कारण से (हे ४, २७८; गा ४६; ६७; उव) ।

ता देखो ताव = तावत् (हे १, २७१; गा १४१; २०१) ।

ता अ [तदा] तब, उस समय (रंभा; कुमा; सण) ।

ता अ [तहि] तो, तब (रंभा; कुमा) ।

ता स्त्री [ता] लक्ष्मी (सुर १६, ४८) ।

तां स [तद्] वह । °गंध पुं [°गन्ध] १ उसका गन्ध । २ उसके गन्ध के समान गन्ध (परण १७) । °कास पुं [°स्पर्श] १ उसका स्पर्श । २ वैसा स्पर्श (परण १७) । °रस पुं [°रस] १ वह स्पर्श । २ वैसा स्पर्श (परण १७) । °रूप न [°रूप] १ वह रूप । २ वैसा रूप (परण १७—पत्र ५२२) ।

ताअ देखो ताव = ताप (गा ७६७; ८१४; हेका ५०) ।

ताअ पुं [तात] १ तात, पिता, बाप (सुर १, १२३; उत्त १४) । २ पुत्र, वत्स (सूअ १, ३, २) ।

ताअ सक [त्रै] रक्षण करना । कृ. तायव्व (श्रा १२) ।

ताअप्प न [तादात्म्य] तद्रूपता, अभेद, अभिन्नता (प्राक २४) ।

ताइ वि [त्यागिन्] त्याग करनेवाला (गा २३०) ।

ताइ वि [तायिन्] रक्षक, परिपालक (उत्त ८) ।

ताइ वि [तापिन्] ताप-युक्त (सूअ १, १५) ।

ताइ वि [त्रायिन्] रक्षक, रक्षण करनेवाला (उत्त २१, २२) ।

ताइ वि [तायिन्] उपकारी (सूअ १, २, २, १७) ।

ताइ पुं [त्रायिन्] मुनि, साधु (दसनि २, ६) ।

ताइअ वि [त्रात] रक्षित (उव) ।

ताउं (अप) देखो ताव = तावत् (कुमा) ।

ताठा (द्वपे) देखो दाढा (हे ४, ३२५) ।

ताड सक [ताड्य्] १ ताड़न करना, पीटना । २ प्रेरणा करना, आघात करना । ३ गुणाकार करना । ताडइ (हे ४, २७) । भवि. ताडइस्सं (पि २४०) । वकृ. ताडित्त (काल) । कवकृ. ताडिज्जमाण, ताडीअंत, ताडीअमाण (सुपा २६; पि २४०; अग्नि १५१) हेकृ. ताडिउं (कप्पु) । कृ. ताडिअ (उत्त १६) ।

ताड पुं [ताल] ताड़ का पेड़ (स २५६) ।

ताडं क पुं [ताडङ्क] कान का आभूषण-विशेष, कुण्डल (दे ६, ६३; कप्पु; कुमा) ।

ताडण न [ताडन] १ ताड़न, पीटना (उप ६८६ टी; गा ५४६) । २ प्रेरणा, आघात (से १२, ८३) ।

ताडाविय वि [ताडित] पीटवाया गया (सुपा २८८) ।

ताडिअ देखो ताड = ताड्य् ।

ताडिअ वि [ताडित] १ जिसका ताडन किया गया हो वह, पीटा हुआ (पाप्र) । २

जिसका गुणाकार किया हो वह; 'इक्कासीई सा करणकारणामइताडिआ होइ' (आ ९)।  
 ताडिअय न [दि] रोदन, रोना (दे ५, १०)।  
 ताडिज्जमाण देखो ताड = ताड्य्।  
 ताडी व्री [ताडी] वृक्ष-विशेष (गडड)।  
 ताडीअंत } देखो ताड = ताड्य्  
 ताडीअमाण }  
 ताण न [त्राण] १ शरण, रक्षण कर्ता (सुपा ५७४)। २ रक्षण (सम ५१)।  
 ताण पुं [नान] संगीत-प्रसिद्ध स्वर-विशेष, 'ताणा एण्णराणणासं' (अणु)।  
 ताणय न [तानय] छुशता, दुर्बलता (किरात १५)।  
 ताणिअ वि [तानित] ताना हुआ (ती १५)।  
 ताद देखो ताअ = तात (प्राकृ १२)।  
 तादत्थ न [तादत्थ्ये] तदर्थभाव, उसके लिए (भावक १२४, १२७)।  
 तादवत्थ न [तादवत्थ्य] स्वरूप का अपभ्रंश वही अवस्था, अभिन्नरूपता (वर्मसं ४०४; ४०५; ४१९)।  
 तादिस देखो तारिस (गा ७३८; प्रासू ३४)।  
 ताम देखो तम्म = तम्। तामइ (गा ८५३)।  
 ताम (अप) देखो ताव = तावत् (हे ४, ४०६; भवि)।  
 तामर वि [दे] रम्य, सुन्दर (दे ५, १०; पात्र)।  
 तामरस न [तामरस] कमल, पत्र (दे ५, १०; पात्र)।  
 तामरस न [दे] पानी में उत्पन्न होनेवाला पुष्प (दे ५; १०)।  
 तामलि पुं [तामलि] स्वनाम-ख्यात एक तापस (भग ३, १; आ ६)।  
 तामलित्ति व्री [ताम्रलित्ति] एक प्राचीन नगरी, बंग देश की प्राचीन राजधानी (उप २८८; भग ३, १; पण १)।  
 तामलित्तिया व्री [ताम्रलित्तिका] जैनमुनि-वंश की एक शाखा (कप्प)।  
 तामस न [तामस] १ अन्वकार। २ अन्व-कार-समूह (चिइय ३२३)।  
 तामस वि [तामस] तमोणुणवाला (पउम ८, ५०; कुप्र ४२८)। १ ल्य न [त्थि] दृश्य वर्ण का अन्व-विशेष (पउम ८, ५०)।

तामहि १ (अप) देखो ताव = तावत् (पड; तामहि) भवि: पि २६१; हे ४, ४०६)।  
 तायण न [त्राण] रक्षण (वर्मवि १२८)।  
 तायत्तीसग पुं [त्रायत्तिशक] गुट-स्थानीय देव-जाति (ठा ३, १; कप्प)।  
 तायत्तीसा व्री [त्रयत्तिशत्] १ संख्या-विशेष, तेत्तीस। २ तेत्तीस संख्यावाला, तेत्तीस; 'तायत्तीसा लोगपाला' (ठा: पि ४४७; कप्प)।  
 तायव्व देखो ताअ = त्रै।  
 तार पुं [तार] १ चौथी नरक का एक स्थान (देवेन्द्र १०)। २ शुद्ध मोती। ३ प्रणव, ओंकार। ४ मायावीज, 'ह्रीं' अक्षर। ५ तरण, तैरना (हे १, १७७)।  
 तार वि [तार] १ निर्मल, स्वच्छ (से ९, ४२)। २ चमकता, देदीप्यमान (पात्र)। ३ अति ऊँचा (से ६, ४)। ४ अति ऊँचा स्वर (राव; मा ४९४)। ५ न. चाँदी (ती २)। ६ पुं. वानर-विशेष (से १, ३४)।  
 १ वई व्री [वती] एक राज-कन्या (आनू ४)।  
 तारंग न [तारङ्ग] तरंग-समूह (से ९, ४२)।  
 तारग वि [तारक] तारनेवाला, पार उत्तारने-वाला (उप पृ ३२)। २ पुं. नृप-विशेष, द्वितीय प्रतिवांसुदेव (पउम ५, १५६)। ३ सूर्य आदि नव ग्रह (ठा ६) देखो तारय।  
 तारगा व्री [तारका] १ नक्षत्र (सुप्र २, ६)। २ एक इन्द्राणी, पूर्णभद्र-नामक इन्द्र की एक पटरानी (ठा ४, १)। देखो तारया।  
 तारण न [तारण] १ पार उत्तारना (सुपा २५७)। २ वि. तारनेवाला (सुपा ४१७)।  
 तारत्तर पुं [दे] मुहूर्त (दे ५, १०)।  
 तारय देखो तारग (सम १; प्रासू १०१)। ४ न. छन्द-विशेष (पिग)।  
 तारया देखो तारगा। ३ आँख की तारा (गडड; गा १४८; २५४)।  
 तारा व्री [तारा] १ आँख की पुतली (गा ४११; ४३५)। २ नक्षत्र (ठा ५, १; से १, ३४)। ३ सुग्रीव की व्री (से १, ३४)। ४ सुभूम चक्रवर्ती की माता (सम १५२)। ५ नदी-विशेष (ठा १०)। ६ बौद्धों की शासन-देवी (कुप्र ४४२)। ७ उर न [पुर] तारंगा-स्थान (कुप्र ४४२)। ८ चंद्र पुं [चन्द्र] एक राज-कुमार (वम्म ७२ टी)। ९ तणय पुं

[तनय] वानर-विशेष, अङ्गद (से १३, ९७)। १० पद्म पुं [पद्म] आकाश, गगन (अणु)। ११ पद्म पुं [प्रभु] चन्द्रमा (उप ३२० टी)। १२ मैत्री व्री [मैत्री] निःस्वार्थ मित्रता (कप्प)। १३ यण न [यन] कनौतिका का चलना, आँख की पुतली का हिलना; 'भगं तारायणं नियइ' (सुपा १८७)। १४ वई पुं [पति] चन्द्रमा (गडड)।  
 तारि वि [तारिन्] तारनेवाला, तारक (सम्मत् २३०)।  
 तारिम वि [तारिम] तरणीय, तैरने योग्य (भास ९३)।  
 तारिय वि [तारित] पार उत्तारा हुआ (भवि)।  
 तारिया व्री [तारिका] तारा के आकार की एक प्रकार की विभूषा, टिकली, टिकिया; 'विचित्तलवंततारियाइन्नं' (सुर ३, ७१)।  
 तारिस वि [ताइरा] वैसा, उस तरह का (कप्प; प्राप्र; कुमा)। व्री, सी (प्रासू १२५)।  
 तारी व्री [तारी] तारकजातीय देवी (पव १९, ४)।  
 तारुअ वि [तारक] तारनेवाला (चिइय ५२१)।  
 तारुण्य न [तारुण्य] तरुणता; यौवन-तारुण्य (गडड; कप्प; कुमा; सुपा ३१९)।  
 ताल देखो ताड = ताड्य्। तालेइ (पि २४०)।  
 वड. तालेमाण (विपा १, १)। कवड. तालिज्जंत, तालिज्जमाण (पउम ११८, १०; पि २४०)।  
 ताल सक [ताल्य्] ताला लगाना, बन्द करना। संक. तालेवि (सुपा ४२८)।  
 ताल पुं [ताल] १ वृक्ष-विशेष (परह १, ४)। २ वाद्य-विशेष, कंसिका (परह २, ५)। ३ ताली (दस २)। ४ चपेटा, तमाचा (से ६, ५६)। ५ वाद्य-समूह (राज)। ६ आजीवक मत का एक उपासक (भग ८, ५)। ७ न-ताला, द्वार बन्द करने की कल (उप ३३३)। ८ ताल वृक्ष का फल (दे ६, १०२)। ९ उड न [पुट] तत्काल प्राण-नाशक विष-विशेष (रागा १, १४; सुपा १३७; ३१९)। १० जंघ पुं [जङ्घ] १ नृप-विशेष (वर्म १)। २ वि-

ताल की तरह लम्बी जाँघवाला (राया १, ८) । उच्चय पुं [°ध्वज] १ वलदेव (श्रावम) । २ नृप-विशेष (दंस १) । ३ शत्रुञ्जय पहाड़ (ती १) । °पलंच पुं [°प्रलम्ब] गोरालक का एक उपासक (भग ८; ५) । °पिसाय पुं [°पिशाच] दीर्घ-काय राक्षस (पण १) । °पुड देखो उड (धा १२) । °यर पुं [°चर] एक मनुष्य-जाति, चारण (श्लो ७६६) । °विंट, °वित, °वेंट, °वोंट न [°वृन्त] व्यजन, पंखा (पि ५३, नाट—वेणी १०४; हे १, ६७; प्राप्र) । °संबुड पुं [°संपुट] ताल के पत्रों का संपुट, ताल-पत्र-संचय (सूत्र १, ५, १) । °सम वि [°सम] ताल के अनुसार स्वर, स्वर-विशेष (अ ७) ।

तालक पुं [ताडक] १ कुण्डल, कान का श्रानुपण-विशेष । २ छन्द-विशेष (पिग) ।

तालकि पुं [ताडकिन्] छन्द-विशेष । छौ. °णी (पिग) ।

तालग न [तालक] ताला, द्वार बन्द करने का यन्त्र (ज ३३६ टी) ।

तालण देखो ताडण (श्रौप) ।

तालणा छौ [ताडना] चपेटा आदि का प्रहार (परह २, १; श्रौप) ।

तालफली छौ [दे] दासी, नौकरानी (दे ५, १) ।

तालय देखो तालग (सुपा ४१४; कुप्र २५२) ।

तालसम न [तालसम] नेय काव्य का एक भेद (दसनि २, २३) ।

तालहल पुं [दे] शालि, श्रीहि (दे ५, ७) ।

ताला श्र [तदा] उस समय, 'ताला जायंति गुणाः जाला ते सहिअर्हि विप्यंति' (हे ३, ६५; कोप्र ५२१) ।

ताला छौ [दे] लाजा, खोई, धान का लावा (दे ५, १०) ।

तालाचर पुं [तालचर] ताल (वाद्य) बजाने-वाला (निचू १५) ।

तालाचर } पुं [तालाचर] १ प्रेक्षक-विशेष,  
तालायर } ताल देनेवाला प्रेक्षक (राया १, १) । १ नट, नर्तक आदि मनुष्य-जाति (बृह ३) ।

तालिअ वि [ताडित] आहत, पीटा हुआ (राया १, ५) ।

तालिअंत सक [भ्रमय्] धुमाना, फिराना । तालिअंतइ (हे ४, ३०) ।

तालिअंत न [तालवृन्त] व्यजन, पंखा (स ३०८) ।

तालिअंटरि वि [भ्रमयित्] धुमानेवाला (कुमा) ।

तालिअंत देखो ताल = ताडय् ।

तालिस देखो तारिस (उत्त ५, ३१) ।

ताली छौ [ताली] १ वृक्ष-विशेष (चार ६३) । २ छन्द-विशेष (पिग) । °पत्त न [°पत्र] ताल-वृक्ष के पत्ता का वना हुआ पंखा (चार ६३) ।

तालु } न [तालु, °क] तालु, मुँह के अन्दर  
तालुअ } का ऊपरी भाग, तलुआ (सत्त ४६; राया १, १६) ।

तालुगघाडणी छौ [तालोद्घाटनी] विद्या-विशेष, ताला खोलने की विद्या (वसु) ।

तालुर पुं [दे] १ फेन, फीण । २ कपित्थ वृक्ष, कैय का पेड़ (दे ५, २१) । ३ पानी का आवर्त्त (दे ५, २१; गा ३७; पात्र) । ४ पुं. पुष्प का सत्व (विक्र ३२) ।

तालेवि देखो ताल = तालय् ।

ताव सक [तापय्] १ तपाना, गरम करना । २ संताप करना, दुःख उपजाना । तावेंति (गा ८५०) । कर्म. ताविज्जंति (गा ७) । कृ. तावणिज्ज (भग १५) ।

ताव पुं [ताप] १ गरमी, ताप (सुपा ३८६; कप्पु) । २ संताप, दुःख (श्राव ४) । ३ सूर्य, रवि । °दिसा छौ [°दिश्] सूर्य-तापित दिशा (राज) ।

ताव श्र [तावत्] इन अर्थों का सूचक अव्यय । १ तवतक (पउम ६८, ५०) । २ प्रस्तुत अर्थ (श्रावम) । ३ अवधारण, निश्चय । ४ अवधि, हृद । ५ पक्षान्तर । ६ प्रशंसा । ७ वाक्य-भूषा । ८ मान । ९ साकल्य, संपूर्णता । १० तब, उस समय (हे १, ११) ।

तावअ वि [तावक] त्वदीय, तुम्हारा (अचु ५३) ।

तावइअ वि [तावत्] उतना (सम १४४; भग) ।

तावं देखो ताव = तावत् (भग) ।

तावँ } (अप) देखो ताव = तावत्  
तावँहि } (कुमा) ।

तावण पुं [तापन] चौथी नरकभूमि का एक नरकस्थान (देवेन्द्र ८) । २ वि. तपानेवाला (त्रि ९७) ।

तावण न [तापन] १ गरम करना, तपाना (निचू १) । २ पुं. इक्ष्वाकु वंश का एक राजा (पउम ५, ५) ।

तावणिज्ज देखो ताव = तापय् ।

तावत्तीस } देखो तावत्तीसय (श्रौप,  
तावत्तीसग } पि ४४५; ४३८; काल) ।  
तावत्तीसय }

तावत्तीसा देखो तावत्तीसा (पि ४३८) ।

तावस पुं [तापस] १ तपस्वी, योगी, संन्यासि-विशेष (श्रौप) । २ एक जैनमुनि (कप्प) । °गेह न [°गेह] तापसों का मठ (पात्र) ।

तावसा छौ [तापसा] जैन मुनियों की एक शाखा (कप्प) ।

तावसी छौ [तापसी] तपस्विनी, योगिनी (गडड) ।

ताविअ वि [तापित] तपाया हुआ, गरम किया हुआ (गा ५३; विपा १, ३; सुर ३, २२०) ।

ताविआ छौ [तापिका] तवा, पूआ आदि पकाने का पात्र (दे २, ५६) । २ कड़ाही, छोटा कड़ाह (श्रावम) ।

ताविच्छ पुं [तापिच्छ] वृक्ष-विशेष, तमाल का पेड़ (कुमा; दे १, ३७; सुपा ५८) ।

तावी छौ [तापी] नदी-विशेष (पउम ३५, १; गा २३६) ।

तास पुं [त्रास] १ भय, डर (ज ५ ३५) । २ उद्वेग, संताप (परह १, १) ।

तासण वि [त्रासन] त्रास उपजानेवाला (परह १, १) ।

तासि वि [त्रासिन्] १ त्रास-युक्त, त्रस्त । २ त्रास-जनक (ठा ४, २; कप्पु) ।

तासिअ वि [त्रासित] जिसको त्रास उप-जाया गया हो वह (भवि) ।

तादे श्र [तदा] उस समय, तब (हे ३, ६५) ।

ति श्र [त्रिः] तीन बार (श्लो ५४२) ।

ति देखो तइअ = तृतीय (कम्म २, १६)।  
 भाग, भाय, हाअ पुं [भाग] तृतीय  
 भाग, तीसरा हिस्ता (कम्म २; णाया १,  
 १६—पत्र २१८; कप्प)।

ति देखो थी; 'उल्लु गायंति कुण्णि समत्तिपुत्ता  
 तिथो चच्चरियाउद्वित्ति' (रंभा)।

ति त्रि.व. [त्रि] तीन, दो और एक (नव ४;  
 महा)। अणुअ न [अणुक] तीन पर-  
 माणुओं से बना हुआ द्रव्य; 'अणुअतएहि  
 आरद्धवच्चे निअणुअं ति निद्वेसा' (सम्म  
 १३६)। उण वि [गुण] १ तीनगुना।  
 २ सत्व, रजस् और तमस् गुणवाला (अच्छु  
 ३०)। उणिय वि [गुणित] तीनगुना  
 (भवि)। उत्तरसय वि [उत्तरशततम]  
 एक सौ तीसरा, १०३ वां (पउम १०३,  
 १७६)। उल वि [तुल] १ तीन को  
 जीतनेवाला। २ तीन को तोलनेवाला (णाया  
 १, १—पत्र ६४)। ओयन [ओजस्]  
 विषम राशि-विशेष (ठा ४, ३)। कंड,  
 कंडग वि [काण्ड, क] तीन काण्डवाला,  
 तीन भागवाला (कप्प; सूय १, ६)। कडुअ  
 न [कडुक] सोंठ, मरीच और पीपल  
 (अणु)। करण देखो गरण (राज)।  
 काल न [काल] भूत, भविष्य और वर्त्त-  
 मान काल (मग; सुपा ८८)। काल देखो  
 काल (सुपा १६६)। खंड वि [खण्ड]  
 तीन खण्डवाला (उप ६८६ टी)। खंडा-  
 हिवइ पुं [खण्डाधिपति] अर्ध चक्रवर्ती  
 राजा, वामुदेव (पउम ६१, २६)। गडु,  
 गडुअ देखो कडुअ (स २५८; २६३)।  
 गरण न [करण] मन, वचन और काया  
 (द्र २०)। गुण देखो उण (अणु)।  
 गुत्त वि [गुप्त] मनोगुप्ति आदि तीन  
 गुप्तिवाला, संयमी (सं ८)। नोण वि  
 [कोण] तीन कोनेवाला (राज)। चत्ता  
 वी [चत्वारिंशत्] तैतालीस (कम्म ४,  
 ५५)। जय न [जगत्] स्वर्ग, मर्त्य  
 और पाताल लोक (ति १)। णयण पुं  
 [नयन] महादेव, शिव (सं १५, ५८; सुपा  
 १३८; ५६६; गडड)। तुल देखो उल  
 (णाया १, १ टी—पत्र ६७)। त्तिस  
 (अप) देखो तीस। तीस व्रीन [त्रय-

त्रिंशत्] १ संख्या-विशेष, ३३। २ तैतीस  
 संख्यावाला, तैतीस (कप्प; जी ३६; मुर १२,  
 १३६; दं २७)। दंड न [दण्ड] १ हथि-  
 यार रखने का एक उपकरण (महा)। २ तीन  
 दण्ड (श्रीप)। दंडि पुं [दण्डिन] संन्यासी,  
 सांख्य मत का अनुयायी साधु (उप १३६ टी;  
 सुपा ४३६ महा)। नवइ वी [नवति] १  
 संख्या विशेष, तिरानत्रे। २ तिरानत्रे संख्या-  
 वाला (कम्म १, ३१)। पंच त्रि.व.  
 [पञ्चन्] पंद्रह (श्रीप १४)। पंचासइम  
 वि [पञ्चाश] त्रिपनत्रा (पउम ५३, १५०)।  
 प्ह न [पथ] जहां तीन रास्ते एकत्रित  
 होते हैं वह स्थान (राज)। पायग न  
 [पातन] १ शरीर, इन्द्रिय और प्राण इन  
 तीनों का नाश। २ मन, वचन और काष्ठा  
 का विनाश (पिंड)। पुंड न [पुण्ड्र]  
 तिलक-विशेष (स ६)। पुर पुं [पुर] १  
 दानव-विशेष। २ न. तीन नगर (राज)।  
 पुरा वी [पुरा] विद्या-विशेष (सुपा  
 ३६७)। व्भंगी वी [भङ्गी] छन्द-विशेष  
 (पिण)। महुर न [मथुर] वी, शङ्कर और  
 मधु (अणु)। मासिआ वी [त्रैमासिकी]  
 जिसकी अवधि तीन मास की है ऐसी एक  
 प्रतिमा, व्रत-विशेष (सम २१)। मुह वि  
 [मुख] १ तीन मुखवाला (राज)। २ पुं.  
 भगवान् संभवनायकी का शासन-देव (संति  
 ७)। रत्त न [रात्र] तीन रात (स  
 ३४२); 'धम्मपरस्त मुहुत्तोवि वुल्लहो किंपुण  
 तिरत्तं' (कुप ११८)। राशि न [राशि]  
 जीव, अजीव और नोजीव ह्य तीन राशियां  
 (राज)। लोअ न [लोकी] स्वर्ग, मर्त्य  
 और पाताल लोक (कुमा; प्रासू ८६; सं १)।  
 लोअण पुं [लोचन] महादेव, शिव  
 (था २८; पउम ५, १२२; पिण)। लोअ-  
 पुज्ज पुं [लोकपूज्य] वातकीपण्ड के विदेह  
 में उत्पन्न एक जिनदेव (पउम ७५, ३१)।  
 लोई वी [लोकी] देखो लोअ (गडड;  
 मत १५२)। लोम देखो लोअ (उप पु  
 ३)। वई वी [पदी] १ तीन पदों का समूह।  
 २ भूमि में तीन वार पर्व का न्यास (श्रीप)।  
 ३ गति-विशेष (अंत १६)। वग्ग पुं  
 [वर्ग] १ वर्ग, अर्थ और काम ये तीन

पुढ्पाव (ठा ४, ४—पत्र २८३; स ७०३;  
 उा पु २०७)। २ लोक, वेद और समय  
 इन तीन का वर्ग। ३ मूत्र, अर्थ और उन  
 दोनों का समूह (आसू ३; आयम)। वण्ण  
 पुं [वर्ण] पलाश वृक्ष (कुमा)। वरिस वि  
 [वर्ष] तीन वर्ष की अवस्थावाला (वव  
 ३)। वलि वी [वलि] चमड़ी की तीन  
 रेखाएँ (कप्प)। वलिय वि [वलिक]  
 तीन रेखावाला (राय)। वली देखो वलि  
 (गा २७८; श्रीप)। वट्ट पुं [वृष्ट] नरत-  
 क्षेत्र के भावी नवम वामुदेव (सम १५४)।  
 वय न [वप] तीन पांडवाला (दे ८, १)।  
 वह्था वी [वधगा] गंगा नदी (सं ६,  
 ८; अचु ३)। वायणा वी [वायना]  
 देखो पायग (परह १, १)। विट्ट,  
 विट्ट पुं [वृष्ट, विष्ट] भारतक्षेत्र में  
 उत्पन्न प्रथम अर्ध-चक्रवर्ती राजा का नाम  
 (सम ८८; पउम ५, १५५)। विह वि  
 [विध] तीन प्रकार का (उवा; जी २०;  
 नव ३)। विहार पुं [विहार] राजा  
 कुमारपाल का बनवाया हुआ पाटण का  
 एक जैन मन्दिर (कुप १४४)। संकु पुं  
 [शङ्कु] सूर्यवंशीय एक राजा (अभि ८२)।  
 संक्त न [सम्भ्य] प्रभात, मध्याह्न और  
 सायंकाल का समय (मुर ११, १०६)।  
 सट्ट वि [पट्ट] तिरसठवां, ६३ वां (पउम  
 ६३, ७३)। सट्टि वी [पट्टि] तिरसठ,  
 ६३ (भवि)। सत्त त्रि.व. [सप्तन]  
 एकीस (था ६)। सत्तनुत्तो अ [सप्त-  
 कृत्वस्] एकीस वार (णाया १, ६; सुपा  
 ४४६)। समइय वि [सामयिक] तीन  
 समय में उत्पन्न होनेवाला, तीन समय की  
 अवधिवाला (ठा ३, ४)। सरय न [सरक]  
 तीन सरा या लड़ीवाला हार (णाया १,  
 १; श्रीप; महा)। २ वाद्य-विशेष (पउम ६६,  
 ४४)। सरा वी [सरा] मच्छली पकड़ने  
 का जाल-विशेष (विपा १, ८)। सरिय न  
 [सरिक] १ तीन सरा या लड़ी वाला हार  
 (कप्प)। २ वाद्य-विशेष (पउम ११३, १११)।  
 ३ वि. वाद्य-विशेष-संबन्धी (पउम १०२,  
 १२३)। सीस पुं [शीर्ष] देव-विशेष  
 (वीव)। सुल न [शूल] शस्त्र-विशेष (पउम

१२, ३४; स ६६६)। °सूलपाणि पुं [°शूल-  
पाणि] १ महादेव, शिव। २ विशूल का  
हाथ में रखनेवाला सुभट (पद्य ५६, ३५)।  
°सुलिया स्त्री [°शूलिका] छोटा विशूल  
(सूत्र १, ५, १)। °हत्तर वि [°सप्त]  
तिहत्तरवाँ, ७३ वाँ (पद्य ७३, ३६)। °हा  
अ [°धा] तीन प्रकार से (पि ४५१; अणु)।  
°हुअण, °हुण, °हुवण न [°भुवन] १  
तीन जगत्, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक  
(कुमा: सुर १, ८; प्रासु ४६; अचु १६)।  
२ पुं. राजा कुमारपाल के पिता का नाम  
(कुप्र १४४)। °हुअणपाल पुं [°भुवन-  
पाल] राजा कुमारपाल का पिता (कुप्र  
१४४)। °हुअणालंकारपुं [°भुवनालंकार]  
रावण के पट्टहस्ती का नाम (पद्य ८१-  
१२२)। °हुणविहार पुं [°भुवनविहार]  
पाटण (गुजरात) में राजा कुमारपाल का वन-  
वाया हुआ एक जैन मन्दिर (कुप्र १४४)।  
देखो ते°।

°ति देखो इअ = इति (कुमा: कम्म २, १२;  
२३)।

तिअ (अप) अक [ तिम्, स्तिम् ] १ आद्र°  
होना। २ सक. आद्र° करना। तिअइ (प्राङ्  
१२०)।

तिअ न [त्रिक] १ तीन का समुदाय (आ १;  
उप ७२८ टी)। २ वह जगह जहाँ तीन  
रास्ते मिलते हैं (सुर १, ६३)। °संजअ  
पुं [°संयत] एक राजपि (पद्य ५, ५१)।  
देखो तिग।

तिअ वि [त्रिज] तीन से उत्पन्न होनेवाला  
(राज)।

तिअंकर पुं [त्रिकंकर] स्वनाम-ख्यात एक  
जैनमुनि (राज)।

तिअग न [त्रिकक] तीन का समुदाय (विते  
२६४३)।

तिअडा स्त्री [त्रिजटा] स्वनाम-ख्यात एक  
राक्षसी (से ११, ८७)।

तिअभंगी स्त्री [त्रिभङ्गी] छन्द-विशेष (पिन)।

तिअय न [त्रितय] तीन का समूह (विते  
१४३२)।

तिअलुक } न [त्रैलोक्य] तीन जगत्—  
तिअलोय } स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक  
(वर्मा ६०; लहप्र ६)।

तिअस पुं [त्रिदश] देव, देवता (कुमा: सुर १,  
६)। °गअ पुं [°गज] ऐरावत या ऐरावण  
हाथी-इन्द्र का हाथी (से ६, ६१)। °नाह पुं  
[°नाथ] इन्द्र (उप ६८६ टी; सुपा ४४)।

°पहु पुं [°प्रभु] इन्द्र, देव-नायक (सुपा  
४७; १७६)। °रिसि पुं [°ऋषि] नारद

मुनि (कुप्र ३७३)। °लोग पुं [°लोक]  
स्वर्ग (उप १०१६)। °विलया स्त्री

[°वनिता] देवी, स्त्री देवता (सुपा २६७)।  
°सरि स्त्री [°सरित्] गंगा नदी (कुप्र)।

°सेल पुं [°शैल] मेरु पर्वत (सुपा ४८)।  
°ालय पुं [°ालय] स्वर्ग (कुप्र १६; उप

७२८ टी; सुर १, १७२)। °हि्वि पुं  
[°धिपि] इन्द्र (सुपा ३४)। °हि्विइ पुं

[°धिपति] इन्द्र (सुपा ७६)।

तिअससूरि पुं [त्रिदशसूरि] बृहस्पति  
(सम्मत् १२०)।

तिअसिद पुं [त्रिदशेन्द्र] इन्द्र, देव-पति  
(वज्जा १५४)।

तिअसेद देखो तिअसिद (चैद्य ६१०)।

तिअसीस पुं [त्रिदशेश] इन्द्र, देव-नायक  
(हे १, १०)।

तिआमा स्त्री [त्रियामा] रात्रि, रात (अचु  
४६)।

तिइक्ख सक [ तितिक्ष् ] सहन करना।  
तिइक्खए (आचा)। वक्क. तिइक्खमाण

(आचा)।  
तिइक्खा स्त्री [तितिक्षा] क्षमा, सहिष्णुता  
(आचा)।

तिइज्ज } वि [तृतीय] तीसरा पि ४४६;  
तिइय } संकि २०)।

तिउक्खर न [त्रिपुष्कर] वाद्य-विशेष  
(अजि ३१)।

तिउट्ट सक [ त्रोटय् ] १ तोड़ना। २ परि-  
त्याग करना। तिउट्टिज्जा (सूत्र १, १,  
१, १)।

तिउट्ट अक [ त्रुट् ] १ टूटना। २ मुक्त  
होना; 'सबुदुक्खा तिउट्टइ' (सूत्र १,  
१५, ५)।

तिउट्ट वि [ त्रुट्ट, त्रुटित् ] १ टूटा हुआ। २  
अपहत (आचा)।

तिउड पुं [दे] कलाप, मोर-पिच्छ (पात्र)।

तिउडग पुं [त्रिपुटक] वाच्य विशेष (वसनि  
६, ८; पत्र १५६)।

तिउडय न [दे] १ मालव देश में प्रसिद्ध वाच्य-  
विशेष (आ १८)। २ लौंग, लवंग (आ पत्र  
६६)।

तिउर न [त्रिपुर] एक विद्यावर-नगर (इक)।

तिउर पुं [त्रिपुर] असुर-विशेष (त्रि ६४)।  
°णाह पुं [°नाथ] वही (त्रि ८७)।

तिउरी स्त्री [त्रिपुरी] नगरी-विशेष, चेदि देश  
की राजधानी (कुमा)।

तिउल वि [दे] मन, वचन और काया को  
पीड़ा पहुँचानेवाला, दुःख का हेतु (उत्त २)।

तिउड देखो तिकूड (से ८, ८३; ११, ६८)।  
तिंगिआ स्त्री [दे] कमल-रज (दे ५, १२)।

तिंगिच्छ देखो तिगिच्छ (इक)।  
तिंगिच्छायण न [चिकित्सायन] नक्षत्र-  
गोत्र-विशेष (इक)।

तिंगिच्छि स्त्री [दे] कमल-रज, पद्म का रज,  
पराग (दे ५, १२; गडड; हे २, १७४; जं ४)।

तिंत वि [तीमित] भोजा हुआ (स ३३२;  
हे ४, ४३१)।

तिंतिण } वि [दे] बड़बड़ करनेवाला,  
तिंतिणिय } बड़बड़ानेवाला, वाञ्छित लाभ

न होने पर खेद से मन में जो आवे सो बोलने-  
वाला (वव १; ठा ६—पत्र ३७१; कस)।

तिंतिणी स्त्री [तिन्निणी] १ चिचा, इमली  
का पेड़ (अभि ७१)।

तिंतिणी स्त्री [दे] बड़बड़ाना (वव ३)।

तिदुइणी स्त्री [तिन्दुकिनी] वृक्ष-विशेष (कुप्र  
१०२)।

तिदुग } पुं [तिन्दुक] १ वृक्ष-विशेष, तेंदू  
तिदुय } का पेड़ (पात्र: पद्य २०, ३७; सम  
१५२; पण १७)। २ न. फल-विशेष

(पण १७)। ३ श्रावस्ती नगरी का एक  
उद्यान (विते २३०७)।

तिदुग } पुं [तिन्दुक] श्रोत्रिय जन्तु की  
तिदुय } एक जाति (उत्त ३६, १३६; सुत्त  
३६, १३६)।

तिदूस पुं [तिन्दूस, °क] ? वृक्ष-विशेष  
तिदूसग (पण १) । २ कन्दुक, गेद  
तिदूसय (ग्याया १, १८; सुपा ५३) ।  
३ क्रोडा-विशेष (श्रावम) ।

तिकरु न [त्रैकाल्य] तीनों काल का विषय  
(पण २, २) ।

तिकरुड पुं [त्रिकूट] ? लंका के समीप का  
एक पहाड़, सुवेल पर्वत (पउम ५, १२७) ।  
२ शीता महानदी के दक्षिण किनारे पर  
स्थित पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) ।  
°सामिय पुं [°स्यामिन्] सुवेल पर्वत का  
स्वामी, रावण (पउम ६५, २१) ।

तिकरु वि [तीक्ष्ण] ? तेज, तीखा, पैना  
(महा; गा ५०४) । २ सूक्ष्म । ३ चोखा-  
शुद्ध (कुमा) । ४ पल्प, निष्पूर (भग १६,  
३) । ५ वेग-युक्त, क्षिप्र-कारो (जं २) । ६  
क्रोधी, गरम प्रकृतिवाला । ७ तीता, कड़वा  
= उसाही । ८ आलस्य-रहित । १० चतुर,  
दक्ष । ११ न. विप, जहर । १२ लोहा ।  
१३ युद्ध, संग्राम । १४ शत्रु, हथियार । १५  
समुद्र का नोन । १६ यवक्षार । १७ श्वेत-  
कुष्ठ । १८ ज्योतिष-प्रसिद्ध तीक्ष्ण गण, यथा  
शरत्पेया, आर्द्रा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र (हे  
२, ७५, ८२) ।

तिकरु सक [तीक्ष्णय्] तीक्ष्ण करना,  
तेज करना । तिकरुइ (हे ४, ३४४) ।

तिकरुण न [तीक्ष्णन] तेज-करण, उत्तेजन  
(कुमा) ।

तिकरुखल सक [तीक्ष्णय्] तीक्ष्ण करना ।  
कर्म. तिमन्नालिजर्जति (सुर १२, १०६) ।

तिकरुखलिअ वि [दे] तीक्ष्ण किया हुआ  
(दे ५, १३; पात्र) ।

तिकरुचो अ [त्रिस्] तीन बार (विपा  
१, १; कप्य; श्रौप; राय) ।

तिर देखो तिअ = त्रिक (जी ३२; सुपा ३१;  
ग्याया १, १) । °वरिस वि [°वशिन्]  
मन, वचन और शरीर को काबू में रखनेवाला;  
'नरस्य त्रिगवस्त्रिस्त विरं तालउडं जहा'  
(सुपा १६७) ।

तिरसंपुण्य न [त्रिकसंपूर्ण] लगातार तीस  
दिन का उपवास (संवाच ५८) ।

तिगिञ्ज पुं [तिगिञ्ज] द्रह-विशेष (इक) ।  
तिगिञ्जायण न [तिगिञ्जायन] गोत्र-विशेष  
(सुज १०, १६ टी) ।

तिगिञ्जि पुं [तिगिञ्जि] ? पर्वत-विशेष  
(ठा २, ३—पत्र ७०; इक; सम; ३३) ।  
२ द्रह-विशेष, निपव पर्वत पर स्थित एक  
हृद (ठा २, ३—पत्र ७२) ।

तिगिञ्ज सक [चिक्रिस्] प्रतीकार करना,  
इलाज करना, दवा करना । तिगिञ्जइ (उत्त  
१६, ७६; पि २१५; ५५५) ।

तिगिञ्ज पुं [चिक्रिस्] वैद्य, हकीम  
(वव ५) ।

तिगिञ्ज पुं [तिगिञ्ज] ? द्रह-विशेष,  
निपव पर्वत पर स्थित एक द्रह (इक) । २  
न. देवविमान-विशेष (नम ३८) ।

तिगिञ्ज न [चैक्रिस्] त्रिक्रिस्ता-शाल  
(सिरि ५६) ।

तिगिञ्जग } वि [चिक्रिस्सक] प्रतीकार  
तिगिञ्जय } करनेवाला । २ पुं. वैद्य, हकीम  
(ठा ४, ४; पि २१५; ३२७) ।

तिगिञ्जग न [चिक्रिस्सन] चिक्रिस्ता  
(पिड १८८) ।

तिगिञ्जय न [चैक्रिस्स्य] चिक्रिस्ता-कर्म  
(ठा ६—पत्र ४५१) ।

तिगिञ्जग्री [चिक्रिस्सा] प्रतीकार, इलाज,  
दवा (ठा ३, ४) । °सद्य न [°शाद्य]  
आयुर्वेद, वैद्यकशास्त्र (राज) ।

तिगिञ्जायण न [तिगिञ्जायन] गोत्र-  
विशेष (सुज १०, १६) ।

तिगिञ्जि देखो तिगिञ्जि (ठा २, ३—पत्र  
८०; सम ८४; १०४; पि ३५४) ।

तिगिञ्जिय पुं [चैक्रिस्सक] वैद्य, चिक्रिस्सक  
(पउम ८, १२४) ।

तिग्ग वि [तिग्ग] तीक्ष्ण, तेज (हे २, ६२) ।

तिग्घ वि [त्रिन्न] त्रिपुना, तीन-मुना (राज) ।

तिचूड पुं [त्रिचूड] विद्यावर वंश का एक  
राजा (पउम ५, ४५) ।

तिजड पुं [त्रिजट] ? विद्यावर वंश के एक  
राजा का नाम (पउम १०, २०) । २ राक्षस  
वंश का एक राजा (पउम ५, २६२) ।

तिजामा } श्री [त्रियामा] रात्रि, रात (कुप्र  
तिजामी } २४५; रंभा) ।

तिज्ज वि [वार्य] तैरने योग्य (भास ६३) ।  
तिडु पुं [दे] अन्न-नाश करनेवाला कीट,  
टिड्डी (जी १८) । श्री. डुड्डी (सुपा ५४६) ।  
तिडुय सक [ताडय्] ताड़न करना ।  
तिडुवइ (प्राक ७६) ।

तिण न [तृण] तृण, घास (सुपा २३३,  
अभि १७५; स १७६) । °सूय न [°शूक]  
तृण का अग्र भाग (भग १५) । °हृथय पुं  
[°हृस्तक] घास का पूला (भग ३, ३) ।  
तिणिस पुं [तिनिश] वृक्ष-विशेष, बेंत (ठा  
४, २; कम्म १, १६; श्रौप) ।

तिणिस न [दे] मधु-पाल, मधुपुडा (दे ५,  
११; ३, १२) ।

तिणिस वि [तैनिश] तिमिश-वृक्ष-संक्रंभो,  
बेंत का (राय ७४) ।

तिणीकय वि [तृणीकृत] तृण-नुल्य माना  
हुआ (कुप्र ५) ।

तिण्ण } अक [तिम्] ? आद्र होना ।  
तिण्णाअइ } २ सक. आद्र करना । तिण्णा-  
अइ (प्राक ७४) ।

तिण्ण वि [तीर्ण] ? पार पहुँचा हुआ (श्रौप) ।  
२ शक्त, समर्थ (सं ११, २१) ।

तिण्ण न [स्तैग्य] चोरी, 'तिलतिण्णतप्परो'  
(उप ५६७ टी) ।

तिण्णं देखो ति = वि । °भंग वि [°भङ्ग]  
त्रि-खण्ड, तीन खण्डवाला (अभि २२४) ।  
°विह वि [°विध] तीन प्रकार का (नाट—  
चैत ४३) ।

तिण्णिअ पुं [तिञ्जिक] देखो तित्तिअ =  
तित्तिक (इक) ।

तिण्ह देखो तिकरु (हे २, ७५; ८२; पि  
३१२) ।

तिण्हा देखो तण्हा (राज; वज्जा ६०) ।

तितउ पुं [तितउ] चालनी या चलनी, आखा,  
आटा या मैदा छानने का पात्र (प्रामा) ।

तितय देखो तिअय (वव १) ।

तितिकरु देखो तिइकरु । तितिकरुइ,  
तितिकरुए (कप्य; पि ४५७) । वड.  
तितिकरुमाण (राज) ।

तितिकरुग न [तितिक्षण] सहन करना  
(ठा ६) ।

तितिकरुया देखो तितिकरुया (पिड ६६६) ।

तित्तिक्खा देखो तिइक्खा (सम ५७) ।  
 तित्त वि [ वृत्त ] वृत्त, संतुष्ट, बुधा (विसे २४०६; श्रौप; दे १, १६; सुपा १६३) ।  
 तित्त वि [ तिक् ] १ तोता, कट्ट्या (खाया १६) । २ पुं. तोता रस (ठा १) ।  
 तित्ति देखो तत्ति = दे (विरि २७; संबोध ६) ।  
 तित्ति क्री [ वृत्ति ] वृत्ति, संतोष (उप ५६७ वी; दे १, ११७; सुपा ३७५; प्राप् १४०) ।  
 तित्ति [ दे ] तात्पर्य, सार (दे ५, ११; पइ) ।  
 तित्तिअ वि [ तावत् ] चतना (हे २, १५६) ।  
 तित्तिअ पुं [ तित्तिक ] १ म्लेच्छ देश-विशेष । २ उस देश में रहनेवाली म्लेच्छ जाति (पएह १, १) । देखो तिण्णिअ ।  
 तित्तिर पुं [ तित्तिरि ] पक्षि-विशेष, तीतर तित्तिर } या तित्तिर (हे १, ६०; कुप्र ४२७) ।  
 तित्तिरिअ वि [ दे ] ज्ञान से आद्रं (दे ५, १२) ।  
 तित्तिल वि [ तावत् ] चतना (पइ) ।  
 तित्तिल पुं [ दे ] द्वास्पाज, प्रतीहार (पा ५५६) ।  
 तित्तुअ वि [ दे ] गुरु, भारी (दे ५, १२) ।  
 तित्तुअ (अप) देखो तित्तिल (हे ४, ४३५) ।  
 तित्थ पुं [ त्रिस्थ ] साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका का समुदाय, जैनसंघ (विसे १०३५) ।  
 तित्थ पुं [ त्र्यर्थ ] ऊपर देखो (विसे १३०३) ।  
 तित्थ न [ तीर्थ ] प्रथम गणवर. (एदि १३० वी) ।  
 तित्थ न [ तीर्थ ] १ ऊपर देखो (विसे १०३३; ठा १) । २ दर्शन, मत (सम्म ८; विसे १०४०) । ३ यात्रा-स्थान, पवित्र जगह (धर्म २; राय; अग्नि १२७) । ४ प्रवचन, शासन, जिन-देव प्रणीत द्वादशाङ्गी (धर्म ३) । ५ पुं. अंबवार, घाट, नदी बगैरह में उतरने का रास्ता (विसे १०२६; विक्र ३२, प्रति ८२; प्राप् ६०) । ६ कर, गंर देखो थर (सन ६७; कण; पउम २०, ८; हे १, १७७) । ७ जत्ता जी [ यात्रा ] तीर्थ-गमन (धर्म २) । ८ णाह, नाह पुं [ नाथ ] जिन-देव (सं ७६१; उप ५ ३५०; सुपा ६५६; सार्थ ४३; सं ३५) । थर वि [ कर ] १ तीर्थ का प्रवर्तक । २ पुं. जिन-देव, जिन भग-

वान् (खाया १, ८; हे १, १७७; सं १०१) जी. री (एदि) । थरणाम न [ करनामन् ] कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव तीर्थकर होता है (ठा ६) । थर पुं [ राज ] जिन-देव (उप ५ ४००) । सिद्ध पुं [ सिद्ध ] तीर्थ-प्रवृत्ति होने पर जो मुक्ति प्राप्त करे वह जीव (ठा १, १) । हिनायग पुं [ अधिनायक ] जिनदेव (उप ६८६ वी) । हिद्व पुं [ अधिप ] सधनायक, जिन-देव (उप १४२ वी) । हिद्वइ पुं [ अधिपति ] जिनदेव, जिन भगवान् (पात्र) ।  
 तित्थंकर पुं [ तीर्थंकर ] देखो तित्थ-थर (चेइय ६५१) ।  
 तित्थि वि [ तीर्थिन् ] १ दार्शनिक, दर्शन-शास्त्र का विद्वान् । २ किसी दर्शन का अनुयायी (गु ३) ।  
 तित्थिअ वि [ तीर्थिक ] ऊपर देखो (प्रबो ७४) ।  
 तित्थीय वि [ तीर्थीय ] ऊपर देखो (विसे ३१६६) ।  
 तित्थेसर पुं [ तीर्थेश्वर ] जिन-देव, जिन भगवान् (सुपा ५१; ८६; २६०) ।  
 तिदस देखो तिअस (नाट—विक्र २८) ।  
 तिवि न [ त्रिवि ] स्वर्ग, देवलोक (सुपा १४२; कुप्र ३२०) ।  
 तिथ (अप) देखो तहा (हे ४, ४०१; कुमा) ।  
 तिन्न देखो तिण्ण (सम १) ।  
 तिन्न वि [ दे ] स्तोमित, आद्रं, गोला (खाया १, ६) ।  
 तिपन्न देखो ते-वण्ण (पंच ५, १८) ।  
 तिप्प सक [ तिप् ] देना । तिप्पइ (पिड २६७) ।  
 तिप्प अक [ वृत् ] वृत्त होना । वक्क. तिप्पंत (पिड ६४७) ।  
 तिप्प सक [ तर्पय ] तृप्त करना, हेक्क. 'न इमा जीवो सक्को तिप्पेइं कामभोगेहि' (पच्च ५५) । क्क. तिप्पियच्च (पउम ११, ७३) ।  
 तिप्प अक [ तिप् ] १ करना, चूना । २ अफसोस करना । ३ रोना । ४ सक, सुख-च्युत करना । तिप्पामि, तिप्पंति (सुप्र २, १; २, २, ५५) । वक्क. तिप्पमाण (खाया १,

१—पत्र ४७) । प्रयो. वक्क. तिप्पयंत (सम ५१) ।  
 तिप्प पुं [ त्रेप ] अपान आदि बोन की क्रिया, शौच (गच्छ २, ३२) ।  
 तिप्प वि [ वृत्त ] संतुष्ट, बुध (हे १, १२८) ।  
 तिप्पण न [ तेषन ] पीड़न, हैरानी (सुप्र २, २, ५५) ।  
 तिप्पणया खो [ तेषनता ] अशु-विमोचन, रोदन (ठा ४, १; श्रौप) ।  
 तिप्पाय न [ त्रिपाद ] तप-विशेष, नीवी (संबोध ५८) ।  
 तिम (अप) देखो तहा (हे ४, ४०१; भवि; कम्म १) ।  
 तिमि पुं [ तिमि ] मत्स्य की एक जाति (पएह १, १) ।  
 तिमिगिल पुं [ दे ] मत्स्य, मछली, तिमि (मत्स्य) को निगलनेवाला मत्स्य (दे ५, १३) ।  
 तिमिगिल पुं [ तिमिङ्गिल ] मत्स्य की एक जाति (दे ५, १३; से ७, ८; पएह १, १) ।  
 गिल पुं [ गिल ] एक प्रकार का महान् मत्स्य, बड़ी भारी मछली (सुप्र २, ६) ।  
 तिमिगिलि पुं [ तिमिङ्गिलि ] मत्स्य की एक जाति (पउम २२, ८३) ।  
 तिमिगिल देखो तिमिगिल = तिमिङ्गिल (उप ५१७) ।  
 तिमिच्छय पुं [ दे ] पयिक, मुसाफिर (दे तिमिच्छाह ५, १३) ।  
 तिमिण न [ दे ] गोला काष्ठ (दे ५, ११) ।  
 तिमिर न [ तिमिर ] १ अन्धकार, अंधेरा (पइ; कप्प) । २ निकाचित कर्म (धर्म २) । ३ अल्प ज्ञान । ४ अज्ञान (आच्छ ५) । ५ पुं. वृक्ष-विशेष (स २०६) ।  
 तिमिरिच्छ पुं [ दे ] वृक्ष-विशेष, करंज का पेड़ (दे ५, १३) ।  
 तिमिरिस पुं [ दे ] वृक्ष-विशेष (पएण १—पत्र ३३) ।  
 तिमिल खोन [ तिमिल ] वाद्य-विशेष (पउम ५७, २२) । खी. ला (राज) ।  
 तिमिस पुं [ तिमिप ] एक प्रकार का पौधा, पेठा, कुम्हड़ा (कप्प) ।  
 तिमिसा } खी [ तिमिस्सा ] वेताइय पर्वत  
 तिमिस्सा } की एक गुफा (ठा २, ३; पएह १, १—पत्र १४) ।



तिन्म अक [ स्तीम् ] भोजनाः आद्रं होना ।  
वक्र. तिन्ममाण (पञ्च ३५, २०) ।

तिन्म सक [ तिम् ] १ आद्रं करना । २  
अक. गोला होना । तिन्मइ (प्राकृ ७४) ।  
संक्र. तिन्मेउं (पिंड ३५०) ।

तिन्म देखो तिग्ग (हे २, ६२) ।

तिन्मिअ वि [ स्तीमित ] आद्रं, गोला, (दे  
१, ३७) ।

तिया वी [ स्त्रिका ] वी, महिला: 'होहो तुय  
तियवक्का फुंडं जयो एत्विमे जीयं' (सुख  
४, ६) ।

तियाल देखो ते-आलोस (कम्म ६, ६०) ।

तिरकर सक [ तिरस् + कृ ] तिरस्कार करना,  
अवधोरणा करना । कृ. तिरक्करणीअ (नाट) ।

तिरक्कार पुं [ तिरस्कार ] तिरस्कार, अपमान,  
अवहेलना (प्रबो ४१; सुपा १४४) ।

तिरक्करिणी } वी [ तिरस्करिणी ] यवनिका,  
तिरक्क्वरिणी } परदा (पि ३०६; अमि  
१८६) ।

तिरक्क देखो तिरिक्क (प्राकृ १६; ३८) ।

तिरि } अ [ तिर्यक् ] तिरिद्धा, देड़ा (प्राकृ  
तिरिअं } ८०; १६) ।

तिरिअ वि [ तैरश्च ] तिर्यंच का, 'तिरिया  
मगुया य दिव्वाग जवसग्गा तिविहाहियासिया  
(सूत्र १, २, २, १५) ।

तिरिअ } वि [ तिर्यच् ] १ वक्र, कुटिल,  
तिरिअंच } वाका (चंद २; उप पृ ३६६;

तिरिअख } सुर १३, १६३) । २ पुं. पशु,  
तिरिअच्च } पत्नी आदि प्राणी; देव, नारक

और मनुष्य से भिन्न योनि में उत्पन्न जन्तु  
(धण ४४, हे २, १४३; सूत्र १, ३, १;

उप पृ १८६; प्रासु १७६; महा; आरा ४६;  
पञ्च २, ५६; जी २०) । ३ मत्स्यलोक, नव्य

लोक (ठा ३, २) । ४ न. मव्य, वीच;  
(अणु; भग १४, ५); 'तिरियं असंखेज्जाणं

दीवसमुद्दाणं मज्झं मज्झेण जेणैव जंबुद्वी  
दीव' (कप्प) । ५ गइ वी [ गति ] १ तिर्यंग-

योनि (ठा ५, ३) । २ वक्र गति, टेढ़ी चाल,  
कुटिल गमन (चंद २) । ३ जंभग पुं

[ जंभक ] देवीं की एक जाति (कप्प) ।  
४ जोणि वी [ योनि ] पशु, पत्नी आदि का

उत्पत्ति-स्थान (महा) । ५ जोणिअ. वि  
[ योनिक् ] तिर्यंग-योनि में उत्पन्न (सम २;

भग; जीव १; ठा ३, १) । ६ जोणिणी वी  
[ योनिक् ] तिर्यंग-योनि में उत्पन्न वी

जन्तु, तिर्यक् वी (परण १७—पत्र ५०३) ।  
७ दिसा दिसि वी [ दिश ] पूर्व आदि

दिशा (आचम; उवा) । ८ पचय पुं [ पर्वत ]  
वीच में पड़ता पहाड़, मागांवरोधक पर्वत

(भग १४, ५) । ९ भित्ति वी [ भित्ति ]  
वीच की भीत (आचा) । १० लोग पुं [ लोक ]

मत्स्य लोक, मव्य लोक (ठा ५, ३) । ११ वंसइ  
वी [ वसति ] तिर्यंग-योनि (परह १, १) ।

तिरिच्छ वि [ तिरश्चोन ] १ तिर्यंग गत  
देड़ा गया हुआ (राज) । २ तिर्यंग-संबन्धी

(उत्त २१, १६) ।  
तिरिच्छि देखो तिरिअ (हे २, १४३; पड ) ।

तिरिच्छिय देखो तेरिच्छिय (आचा २, १५,  
५) ।

तिरिच्छी वी [ तिरश्ची ] तिर्यक्-वी (कुमा) ।  
तिरिड पुं [ दे ] एक जाति का पेड़, तिमिर

वृक्ष (दे ५, ११) ।  
तिरिडिअ वि [ दे ] १ तिमिर-युक्त । २ विचित

(दे ५, २२) ।  
तिरिडि पुं [ दे ] उष्ण वात, गरम पवन (दे

५, १२) ।  
तिरिश्चि (मा) देखो तिरिच्छि (हे ४, २६५) ।

तिरीड पुं [ किरीट ] मुकुट, तिर का आभूषण  
(परह १, ४, सम १५३) ।

तिरीड पुं [ तिरिड ] वृक्ष-विशेष (वृह २) ।  
१ पट्टय न [ पट्टक ] वृक्ष-विशेष को छाल का

वना हुआ कपड़ा (ठा ५, ३—पत्र ३३८) ।  
तिरीडि वि [ किरीटिम् ] मुकुट-युक्त, मुकुट-

विभूषित (उत्त ६, ६०) ।  
तिरोभाव पुं [ तिरोभाव ] लय, अन्तर्धान

(विसे २६६६) ।  
तिरोवइ वि [ दे ] वृत्ति से अन्तर्हित, वाड़ से

व्यवहित (दे ५, १३) ।  
तिरोहा सक [ तिरस् + धा ] अन्तर्हित करना,

लोप करना, अदृश्य करना । तिरोहंति (वसंवि  
२४) ।

तिरोहिअ वि [ तिरोहित ] लुप्त, अन्तर्हित,  
अदृश्य, आच्छादित, ढका हुआ (राज) ।

तिल पुं [ तिल ] १ स्वनाम-प्रसिद्ध अन्न-विशेष,  
तिल (गा ६६५; एाया १, १; प्रासु ३४;

१०८) । २ ज्योतिष्क देव-विशेष, ग्रह-विशेष (ठा  
२, ३) । ३ कुट्टी वी [ कुट्टी ] तिल की बनी हुई

एक भोज्य वस्तु, तिलकुट (वर्म २) । ४ पुष्प-

डिया वी [ पर्पटिका ] तिल की बनी हुई एक  
खाद्य चीज, तिल-पापड़ (परण १) । ५ पुष्पवण्ण

पुं [ पुष्पवर्ण ] ज्योतिष्क देव-विशेष, ग्रह-

विशेष (ठा २, ३) । ६ मल्ली वी [ मल्ली ]  
एक खाद्य वस्तु (वर्म २) । ७ संगलिया वी

[ संगलिका ] तिल की फली (भग १५) ।  
८ संकलिया वी [ संकलिका ] तिल की

बनी हुई खाद्य वस्तु-विशेष, तिलबुजिया (राज) ।  
तिलइअ वि [ तिलकित ] तिलक की तरह

आचरित, विभूषित; 'जयजयसइतिलइयो  
मंगलकुणो' (वर्मा ६) ।

तिलंग पुं [ तिलङ्ग ] देश-विशेष, एक भारतीय  
दक्षिण देश, आंध्र प्रांत (कुमा; इक) ।

तिलगकरणी वी [ तिलककरणी ] १ तिलक  
करने की सलाई । २ गोरोचना; पीले रंग का

एक सुगंधित द्रव्य, जो गाय के पित्तार्थय से  
निकलता है (सूत्र १, ४, २, १०) ।

तिलग } पुं [ तिलक ] १ वृक्ष-विशेष (सम  
तिलय } १५२; औप; कप्प; एाया १, ६;

उप ६८६ टी; गा १६) । २ एक प्रतिवासु-

देव राजा, भरतनेत्र में उत्पन्न पहला प्रति-

वासुदेव (सम १५४) । ३ द्वीप-विशेष । ४  
समुद्र-विशेष (राज) । ५ न. पुष्प-विशेष

(कुमा) । ६ टीका; ललाट में किया जाता  
चन्दन आदि का चिह्न (कुमा वर्मा ६) । ७

एक विद्याधर-नगर (इक) ।  
तिलवट्टी वी [ तिलपर्वटी ] तिल की बनी हुई

एक खाद्य वस्तु, तिलपट्टी (पव ४ टी) ।  
तिलितिलय पुं [ दे ] जल-जन्तु विशेष (कप्प) ।

तिलिम वीन [ दे ] वाद्य-विशेष (सुपा २४२;  
सण) । वी. मा (सुर ३, ६८) ।

तिलुक न [ त्रैलोक्य ] स्वर्ग, मत्स्य और  
पाताल लोक (दं २३) ।  
तिलुत्तमा देखो तिलोत्तमा (सम्मत्त १८८) ।  
तिलेह न [ तिलतैल ] तिल का तेल (कुमा) ।  
तिलोक देखो तिलुक (सुर १, ६२) ।

तिलोत्तमा स्त्री [तिलोत्तमा] एक स्वर्गीय  
अप्सरा (उप ७६८ टी; महा) ।

तिलोदग } न [तिलोदक] तिल का धोवन—  
तिलोदय } जल (आचा; कप्प) ।

तिल्ल न [तैल] तैल, तेल (सूक्त ३५; कुप्र  
२४०) ।

तिल्ल न [तिल्ल] छन्द-विशेष (पिंग) ।

तिल्लग वि [तैलक] तेल बेचनेवाला, तेली  
(बृह १) ।

तिह्दही स्त्री [द] गिलहरी, गु० लीसकोली  
(नंदी टि. पत्र. १३३ मुद्रित) मारवाड़ी में  
तालोडी, ताली ।

तिल्लोदा स्त्री [तैलोदा] नदी-विशेष (निचू १) ।

तिव्वं (अप) देखो तहा (हे ४, ३६७) ।

तिव्वण्णी स्त्री [त्रिवर्णा] एक महोपवि (तो  
५) ।

तिवाय सक [त्रि + पातय्] मन, वचन  
श्रीर काय से नष्ट करना, जान से मार  
डालना । तिवायए (सूत्र १, १, १, ३) ।

तिविक्रम पुं [त्रिविक्रम] जैनपुनि; 'गहिया  
नियएहि (? तिपएहि) मही, तिविक्रमो  
तेण विकखाओ' (वर्मवि ८६) ।

तिविडा स्त्री [दे] सूची, सूई (दे ५, १२) ।

तिविडी स्त्री [दे] पुटिका, छोटा पुड़वा (दे ५,  
१२) ।

तिव्व वि [तीव्र] १ प्रबल, प्रचण्ड, उत्कट  
(भग १५; आचा) । २ रौद्र, भवानक, डरावना  
(सूत्र १, ५, १) । ३ गाढ़, निविड़ (परह १,  
१) । ४ तिक, कडुआ (भग ६, ३४) । ५  
प्रकट, उत्तम, प्रकर्ष-युक्त (राया १, १—  
पत्र ४) ।

तिव्व वि [द. तीव्र] १ दुःसह, जो कठिनता  
से सहन हो सके (दे ५, ११; सूत्र १, ३,  
३; १, ५, १; ३, ६; आचा) । २ अत्यन्त  
अधिक, अत्यर्थ (दे ५; ११; धर्म २; श्रौप;  
परह १, ३; पंचा १५; श्राव ६; उवा) ।

तिसंथ वि [त्रिसंथ] तीन बार सुनने से  
अच्छी तरह याद कर लेने की शक्तिवाला  
(धर्मसं १२०७) ।

तिसला स्त्री [त्रिशाला] भगवान् महावीर की  
माता का नाम (सम १५१) । सुअ पुं  
[सुत] भगवान् महावीर (पउम १, ३३) ।

तिसा स्त्री [तृपा] प्यास, पियासा (सुर ६,  
२०६; पात्र) ।

तिसाइय } वि [तृपित] तृपातुर, प्यासा  
तिसिय } (महा; उव; परह १, ४; सुर १,  
१६६) ।

तिसिर पुं. व. [त्रिशिरस्] १ देश-विशेष  
(पउम ६८, ६५) २ पुं. तृप-विशेष (पउम  
६६, ४६) । ३ रावण का एक पुत्र (से  
१२, ५६) ।

तिस्सगुत्त देखो तीसगुत्त (राज) ।

तिह (अप) देखो तहा (कुमा) ।

तिहि पुं स्त्री [तिथि] पंचदश चन्द्र-कला से  
युक्त काल, दिन, तारोख (चंद १०; पि  
१८०) ।

तीअ वि [तृतीय] तीसरा (सम १५०; संक्षि  
२०) ।

तीअ नि [अतीत] १ गुजरा हुआ, बीता  
हुआ (सुपा ४४६; भग) २ पुं. भूतकाल (ठा  
३, ४) ।

तीइल पुं [तैतिल] ज्योतिष-प्रसिद्ध करण-  
विशेष (विसे ३३४८) ।

तीमण न [तीमन] कढ़ी, लाद्य-विशेष, भोर  
(दे २, ३५; सण) ।

तीमिअ वि [तीमित] आदर, गोला (कुप्र  
३७३) ।

तीय वि [तैत] तीन (सूत्र, १, २, २,  
२३) ।

तीर अक [शक्] समर्थ होना । तीरइ (हे  
४, ८६) ।

तीर सक [तीरय्] समाप्त करना, परिपूर्ण  
करना । तीरइ, तीरइ (हे ४, ८६; भग) ।  
संक्र. तीरित्ता (कप्प) ।

तीर पुंन [तीर] किनारा, तट, पार (स्वप्न  
११६; प्रासू ६०; ठा ४, १; कप्प) ।

तीरंगम वि [तीरंगम] पार-नामी, पार जाने-  
वाला (आचा) ।

तीरट्ट पुं [तीरस्थ, तीरार्थ] साधु, मुनि,  
श्रमण (दसनि २, ६) ।

तीरिय वि [तीरित] समाप्त, परिपूर्ण किया  
हुआ (पव ५) ।

तीरिया स्त्री [दे] शर या तीर रखने का थैला,  
तरकरा, तूणोर, बाणवि (?) ; 'गहियमण्येण  
पासद्वं वणुवरं, संविआ तीरियासरो' (स  
२६७) ।

तीस न [त्रिशन्] १ संख्या-विशेष, तीस,  
३० । २ तीस-संख्यावाला (महा; भवि) ।

तीसआ } स्त्री [त्रिशन्] ऊपर देखो (संक्षि  
तीसइ } २१) । वरिस वि [वर्ष] तीस  
वर्ष की उम्र का (पउम २, २८) ।

तीसइम वि [त्रिश] १ तीसवां (पउम ३०,  
६८) । २ न. लगातार चौदह दिनों का उप-  
वाच (राया १, १) ।

तीसग वि [त्रिशक] तीस वर्ष की उम्रवाला  
(तंडु १७) ।

तीसगुत्त पुं [तिष्ठ्यगुत्त] एक प्राचीन आचार्य-  
विशेष, जिसने अन्तिम प्रदेश में जीव की सत्ता  
का पन्थ चलाया था (ठा ७) ।

तीसमइ पुं [तिष्ठ्यभद्र] एक जैनमुनि  
(कप्प) ।

तीसम वि [त्रिश] तीसवां (भवि) ।

तीसा स्त्री. देखो तीस (हे १, ६२) ।

तीसिया स्त्री [त्रिशिका] तीस वर्ष के उम्र  
की स्त्री (वव ७) ।

तु अ [तु] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१  
मिन्नता, भेद, विशेषण (था २७; विसे  
३०३५) । २ अवधारण, निरचय (सूत्र १,  
२, २) । ३ समुच्चय (सूत्र १, १, १) ।  
४ कारण, हेतु (निचू १) । ५ पाद-पूरक  
अव्यय (विसे ३०३५; पंचा ४) ।

तुअ सक [तुद] व्यथा करना, पीड़ा करना ।  
तुअइ (पड्) । प्रयो. संक्र. तुयावइत्ता (ठा  
३, २) ।

तुअर पुं [तुवर] धान्य-विशेष, रहुर (जं  
१) ।

तुअर अक [त्वर] त्वरा होना, शीघ्र होना,  
जल्दी होना । तुअर (गा ६०६) ।

तुंग वि [तुङ्ग] १ ऊँचा, उच्च (गा २५६;  
श्रौप) । २ पुं. छन्द-विशेष (पिंग) ।

तुंगार पुं [तुङ्गार] अग्नि कोण का पवन  
(श्रावम) ।

तुंगिम पुं स्त्री [तुङ्गिमन्] ऊँचाई, उच्चत्व  
(सुपा १२४; वजा १५०; कप्प; सण) ।

तुंगिय पुं [तुङ्गिक] १ ग्राम-विशेष (श्रावम) ।  
२ पर्वत-विशेष; 'तुंगे तुंगियसिहरे गंतुं तिब्बं  
तवं तवइ' (कुप्र १०२) । ३ पुं स्त्री गान्ध-विशेष  
में उत्पन्न; 'जसमइं तुंगियं चेत्र' (एदि) ।

तुंगिया ली [तुङ्गिका] नगरी-विशेष (भग) ।  
तुंगियायण न [तुङ्गिकायन] एक गोत्र का नाम (कप्प) ।

तुंगी ली [दे] १ रात्रि, रात (दे ५, १४) ।  
१ आयुध-विशेष; 'असिपरमुकुंततुंगीसंघट्ट—'  
(काल) ।

तुंगीय पुं [तुङ्गीय] पर्वत-विशेष (सुर १,  
२००) ।

तुंड लीन [तुण्ड] १ मुख, मुँह (गा ४०२) ।  
२ अग्र-भाग (निचू १) । ली. 'डंडी; 'कि  
कोवि जीवियथो कंडुयइ ग्रहिस्स तुंडीए'  
(सुपा ३२२) ।

तुंडीर न [दे] मधुर-विम्बो-फल (दे ५,  
१४) ।

तुंडूअ पुं [दे] जोएणं घट, पुराना घड़ा (दे  
५, १५) ।

तुंतुक्खुडिअ वि [दे] त्वरा-युक्त (दे ५,  
१६) ।

तुंद न [तुन्द] उदर, पेट (दे ५, १४; उप  
७२८ टी) ।

तुंदिल्ल वि [तुन्दिल] बड़ा पेटवाला, तोंदिल  
तुंदिल्ल (कप्प; पि ५६५; उत्त ७) ।

तुंव न [तुम्ब] तुम्बो, अलावू, लीकी (पउम  
२६, ३४; श्रोष ३८; कुप्र १३६) । २ गाड़ी  
की नाभि; 'न हि तुंविम्मि विण्णट्टे अरया  
साहारया हुंति' (आवम) । ३ 'ज्ञाताधर्मकया'  
सूत्र का एक अध्येयन (सम) । 'वीण न  
[वन] संनिवेश-विशेष, एक गाँव का नाम  
(साधं २५) । 'वीण वि [वीण] वीणा-  
विशेष को वजानेवाला (जीव ३) । 'वीणिय  
वि [वीणिक] वही पूर्वोक्त अर्थ (श्रोप;  
परह २, ४; साया १, १) ।

तुंव न [तुम्ब] पहिए के बीच का गोल अत्र-  
यव (एदि ४३) । 'वीणा ली [वीणा]  
वाद्य-विशेष (राय ४६) ।

तुंवुरु देखो तुंवुरु (इक) ।

तुंवा ली [तुम्बा] लोकपाल देवों की एक  
अभ्यन्तर परिपद् (ठा ३, २) ।

तुंवाग पुंन [तुम्बक] कद्दू, लीकी (दस ५, १  
७०) ।

तुंविणी ली [तुम्बिनी] बल्ली-विशेष (हे ४,  
४२७; राज) ।

तुंविही ली [दे] १ मधु-पटल, मधपुड़ा ।  
२ उद्दल, ऊदल (दे ५, २३) ।

तुंवी ली [तुम्बी] १ तुम्बी, अलावू, लीकी,  
कद्दू (दे ५, १४) । २ धैन साधुओं का एक  
पात्र, तपस्वी (सुपा ६४१) ।

तुंवुरु पुं [तुम्बुरु] १ वृक्ष-विशेष, टिवरु  
का पेड़ (दे ४, ३) । २ गन्धर्व देवों की एक  
जाति (परए १; सुपा २६४) । ३ भगवान्  
सुमतिनाय का शासनाधिष्ठापक देव (संति  
७) । ४ शक्रेन्द्र के गन्धर्व-सैन्य का अधिपति  
देव-विशेष (ठा ७) ।

तुक्खार पुं [दे] एक उत्तम जाति का अश्व  
या घोड़ा, 'अन्नं च तस्य पत्ता तुक्खारसुरंगमा  
वहुविहीया' (सुर ११, ४६; भवि) । देखो  
तोक्खार ।

तुच्छ पुंली [तुच्छा] रिक्ता तिथि, चतुर्थी,  
नवमी तथा चतुर्दशी तिथि (सुज्ज १०,  
१५) ।

तुच्छ वि [दे] अवशुष्क, सूखा, नीरस  
(दे ५, १४) ।

तुच्छ वि [तुच्छ] १ हलका, जघन्य, निकृष्ट,  
हीन (साया १, ५; प्रासू ६६) । २ अल्प,  
थोड़ा (भग ६, ३३) । ३ शून्य, रिक्त, बाली  
(आचा) । ४ असार, निःसार (भग १८,  
३) । ५ अपूर्ण (ठा ४, ४) ।

तुच्छइअ वि [दे] रजित, अनुराग-प्राप्त  
तुच्छय (दे ५, १५) ।

तुच्छिम पुंली [तुच्छिव] तुच्छता (वज्जा  
१५६) ।

तुज्ज न [तूर्य] वाद्य, बाजा (सुज १०) ।

तुट्ट अक [तुट्ट, तुट्ट] १ दृटना, छिन्न होना,  
खरिडत होना । २ दृटना, घटना, बीतना ।  
तुट्ट (महा; सण; हे ४, ११६); 'अणवरयं  
दंतस्सवि तुट्टंति न सायरे खण्णइ' (वजा  
१५६) । वक्क-तुट्टंत (सण) ।

तुट्ट वि [तुट्टित] दृटा हुआ, छिन्न, खरिडत  
(स ७१८; सूक १७; दे १, ६२) ।

तुट्टण न [तुट्टण] विच्छेद, पृथक्करण (सूत्र  
१, १, १; वजा ११६) ।

तुट्टिअ वि [तुट्टित, तुट्टित] छिन्न, खरिडत  
(कुमा) ।

तुट्टि वि [तुट्टित] दृष्टनेवाला (कुमा; सण) ।  
तुट्ट वि [तुट्ट] तोप-प्राप्त, वृष्ट, संतुष्ट, सुय  
(सुर ३, ४१; उवा) ।

तुट्टि ली [तुट्टि] १ तुशी, आनन्द, संताप  
(स २००; सुर ३, २५; सुपा २४६; निर  
१, १) । २ कृपा, मेहरबानी (कुप्र १) ।

तुट्ट अक [तुट्ट] दृटना, अलग होना । तुट्ट  
(हे ४, ११६) ।

तुट्टि ली [तुट्टि] १ न्यूनता, कमी । २ दोष,  
दूषण (हे ४, ३६०) । ३ संशय, संदेह (सुर  
३, १६१) ।

तुट्टिअ न. [तुट्टिक] अन्तःपुर, रनवास;  
'तुट्टिकमन्तःपुरमपरिश्यते' (जोवानि; चू०) ।

तुट्टिअ न [तुट्टिक] अन्तःपुर, जनानखाना  
(सुज १८—पर २६५) ।

तुट्टिअ वि [तुट्टित] दृटा हुआ, विच्छिन्न  
(अचू ३३; दे १, १५६; सुपा ८५) ।

तुट्टिअ न [दे. तुट्टित] १ वाद्य, बादिन,  
बाजा (श्रोप; राय; जं ३; परह २, ५) । २  
बाहु-रक्षक, हाथ का आभरण-विशेष (श्रोप;  
ठा ८; पउम ८२, १०४; राय) । ३ संख्या-  
विशेष; 'तुट्टिअंग' को चौरासी लाख से गुणने  
पर जो संख्या लब्ध हो वह (इक; ठा २, ४) ।  
४ सांधा, फटे हुए वस्त्र आदि में लगायी जाती  
पट्टी, पवन (निचू २) ।

तुट्टिअंग न [दे. तुट्टिताङ्ग] १ संख्या-  
विशेष, 'पूर्व' को चौरासी लाख से गुणने पर  
जो संख्या लब्ध हो वह (इक; ठा २, ४) ।  
२ पुं. वाद्य देनेवाला कल्प-वृक्ष (ठा १०;  
सम १७; पउम १०२, १२३) ।

तुट्टिआ ली [तुट्टिता] लोकपाल देवों के  
अग्र-महिषियों की मध्यम परिपद् (ठा  
३, २) ।

तुट्टिआ ली [दे. तुट्टिका] बाहु-रक्षिका,  
हाथ का आभरण-विशेष (परह १, ४;  
साया १, १, टी—पर ४३) ।

तुण्णय पुं [दे] वाद्य-विशेष (दे ५, १६) ।

तुण्णग देखो तुण्णग (राज) ।

तुण्णण न [तुण्णन] फटे हुए वस्त्र का सम्मान  
(उप घृ ४१३) ।

तुण्णग पुं [तुण्णवाय] वस्त्र को साँवने-  
तुण्णाय } वाला, रफू करनेवाला, शिल्पी  
(एदि; उप घृ २१०; महा) ।

तुण्णिय वि [तुन्नित] रफू क्रिया हुआ, सांघा हुआ (वृह १) ।

तुण्हि अ [तूष्णीम्] मौन, चुप्पी, चुपकी, चुपचाप, चुपकेसे, मौन होकर (भवि) ।

तुण्हि पुं [दे] सूकर, सूअर (दे ५, १४) ।

तुण्हि देखो तुण्हि = तूष्णीम् (प्राक ३२) ।

तुण्हिअ वि [तूष्णीक] मौन रहा हुआ, तुण्हिअ मौन रहनेवाला, चुप रहनेवाला (प्राप्रः गा ३५४; सुर ४, १४८) ।

तुण्हिअ वि [दे] मृदु-निश्चल (दे ५, १५) ।

तुण्हिअ देखो तुण्हिअ (स्वप्न ४२) ।

तुत्त देखो तोत्त (सुपा २३७) ।

तुद देखो तुअ । तुदए (पड्) । वक्र. तुदं (विसे १४७०) ।

तुद पुं [तोद] प्रतोद, अरदार डंडा, चाबुक (सूत्र १, ५, २, ३) ।

तुन्नण न [तुन्नन] रफू करना (गच्छ ३, ७) ।

तुन्नाय देखो तुण्णाय (एदि १६४) ।

तुन्नार पुं [तुन्नकार] रफू करनेवाला शिल्पी (धर्मवि ७३) ।

तुप्प पुं [दे] १ कौतुक । २ विवाह, शादी । ३ सपप, सरसों, धान्य-विशेष । ४ कुनुप, धी आदि भरने का चर्म-पात्र (दे ५, २२) । ५ वि. अक्षित, चुपड़ा हुआ, धी आदि से लिप्त (दे ५, २२; कप्पः गा २२; २८६; हे १, २००) । ६ स्निग्ध, स्नेह-युक्त (दे ५, २२; श्रौष ३०७ भा) । ७ न. घृत, धी (से १५, ३८; सुपा ६३४; कुमा) ।

तुप्प वि [दे] वेष्टित (अणु २६) ।

तुप्पइअ वि [दे] धी से लिप्त (गा ५२० अ) ।

तुमंतुम पुं [दि] श्लेष-कृत मनो-विकार विशेष (ठा ८—पत्र ४४१) ।

तुमंतुम पुं [दे] १ तूकारवाला वचन, तिरस्कार वचन, तू, तू (सूत्र १, ६, २७) । २ वाक्-कलहः 'अप्पतुमंतुमे' (उत्त २६, ३६) । ३ वि. तूकारे से बात कहनेवाला (संघोष १७) ।

तुमल पुं [तुमल] १ लोम-हर्षण युद्ध, भयानक संग्राम (गडड) । २ न. शोरगुल (पात्र) ।

तुम्ह स [युष्मत्] तुम, आप (हे १; २४६) ।

तुम्हकेर वि [स्वदीय] तुम्हारा (कुमा) ।

तुम्हकेर वि [युष्मदीय] आपका, तुम्हारा (हे १, २४६; २, १४७) ।

तुम्हार (अप) ऊपर देखो (भवि) ।

तुम्हारिस वि [युष्मादृश] आपके जैसा, तुम्हारे जैसा (हे १, १४२; गडड; महा) ।

तुम्हेचय वि [यौष्माक] आपका, तुम्हारा (हे २, १४६; कुमा; पड्) ।

तुयट्ट अक [त्वग् + वृत्] पार्थ को घुमाना, करवट फिराना । तुयट्टइ, (कप्प; भग) ।

तुयट्टेज, तुयट्टेजा (भग; श्रौष) । हेऊ. तुयट्टित्तए (आचा) । क. तुयट्टियव्व (णया १, १; भग, श्रौष) ।

तुयट्टण न [त्वग्वर्तन] पार्थ-परिवर्तन, करवट फिराना (श्रौष १५२ भा; श्रौष) ।

तुयट्टावण न [त्वग्वर्तन] करवट बदलवाना । (आचा) ।

तुयावइत्ता देखो तुअ ।

तुर अक [त्वर] त्वरा होना, जल्दी होना, शीघ्र होना । वक्र. तुरंत, तुरंत, तुरमाण, तुरेमाण (हे ४, १७२; प्रासू ५८; पड्) ।

तुर } श्री [त्वरा] शीघ्रता, जल्दी (दे ५, तुरा } १६) । थंत वि [थन्त्] त्वरा-युक्त,

तुरंग पुं [तुरङ्ग] अथ, घोड़ा (कुमा; प्रासू ११७) । २ रामचन्द्र का एक सुभट (पउम ५६, ३८) ।

तुरंगम पुं [तुरङ्गम] अथ, घोड़ा (पात्र; पिमं) ।

तुरंगिआ श्री [तुरङ्गिका] घोड़ी (पात्र) ।

तुरंत देखो तुर ।

तुरक पुं [दि-तुरुक्क] १ देश-विशेष, तुकिस्तान । २ अनायं जाति-विशेष, तुक (ती १४) ।

तुरग देखो तुरय (भग ११, ११; राय) ।

मुह पुं [मुख] अनायं देश-विशेष (सूत्र १, ५ टी) । मेडग पुं [मेडक] अनायं देश-विशेष (सूत्र १, ५, १ टी) ।

तुरमणी देखो तुरमणी (सट्टि ५७ टी) ।

तुरमाग देखो तुर ।

तुरय पुं [तुरा] १ अथ, घोड़ा (परह १, ४) । २ छन्द-विशेष (पिग) । °देहपिञ्जरण

न [°देहापिञ्जरण] अथ को सिमारता, संवारना, शृंगार करना (पात्र) । देखो तुरग ।

तुरयमूह देखो तुरग-मुह (पव २७४) । त्वरावाला, जल्दवाज (से ४, ३०) ।

तुरिअ वि [त्वरित] १ त्वरा-युक्त, उतावला (पात्र; हे ४, १७२; श्रौष; प्राप्र) । २ क्रिवि. शीघ्र, जल्दी (सुपा ४६४; भवि) । °गइ वि [°गति] १ शीघ्र गतिवाला । २ पुं. अमितगति नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) ।

तुरिअ वि [तुर्य] चौथा, चतुर्थ (सुर ४, २५०; कम्म ४, ६६; सुपा ४६४) । °निद्रा श्री [°निद्रा] मरणदशा (उप पृ १४३) ।

तुरिअ न [तूर्य] वाद्य, वावित्र, वाजा; 'तुरियाणं संनिनाएण, दिव्वेणं गगणं फुसे' (उत्त २२, १२) ।

तुरिमिणी देखो तुरमणी (राज) ।

तुरी श्री [दे] १ पीन, पुष्ट । २ शय्या का उपकरण (दे ५, २२) ।

तुरु न [दे] वाद्य-विशेष (विक्र ८७) ।

तुरुक न [तुरुक्क] सुगन्धि द्रव्य-विशेष, जो घूप करने में काम आता है, लोवान, सिल्हक (सम १३७; णया १, १; पउम २, ११; श्रौष) ।

तुरुक पुं [तुरुक्क] १ देश-विशेष, तुकिस्तान । २ वि. तुकिस्तान का (स १३) ।

तुरुकी श्री [तुरुक्की] लिपि-विशेष (विसे ४६४ टी) ।

तुरमणी श्री [दे] नगरी-विशेष (भत्त ६२) ।

तुरंत देखो तुर ।

तुरेमाण } देखो तुर ।

तुल सक [तोलय्] १ तौलना । २ उठाना । ३ ठीक-ठीक निश्चय करना । तुलइ, तुलेइ (हे ४, २५; उव; वजा १५८) । वक्र. तुलंत (पिग) । संक्र. तुलेऊण (वृह १) । क. तुलेअव्व (से ६, २६) ।

तुलं देखो तुला (सुपा ३६) ।

तुलंगा देखो तुलंगा (अणु ८०) ।

तुलगा न [दे] काकतालीय न्याय (दे ५, १५; से ४, २७) ।

तुलगा बी [दे] यहच्छा, स्वरिता, स्वेच्छा, अपनी मंशा (विक्र ३५)।

तुलण न [तुलन] तौलना, तोलन (कप्पु; वजा १५७)।

तुलगा बी [तुलना] तौलना, तोलन (उप ५ २७४; स ६६२)।

तुलणा बी [तुलना] तौल, वजन (धर्मवि ६)।

तुलय वि [तोलक] तौलनेवाला (सुपा १६७)।

तुलसिआ बी [तुलसिका] नीचे देखो (कुमा)।

तुलसी बी [दे. तुलसी] लता-विशेष, तुलसी (दे ५, १४; परण १; ठा न; पात्र)।

तुला बी [तुला] १ राशि-विशेष (सुपा ३६)। २ तराजू, तौलने का साधन (सुपा ३६०, गा १६१)। ३ उपमा, साहस्य (सूत्र २, २)। ४ सम वि [सम] राग-द्वेष रहित, मध्यस्थ (वृह ६)।

तुला बी [तुला] १०५ या ५०० पल का एक नाप (अणु १५४)।

तुलिअ वि [तुलित] १ उठायी हुआ, ऊँचा किया हुआ (से ६, २०)। २ तौला हुआ (पात्र)। गुना हुआ (राज)।

तुलेअव्य देखो तुल।

तुल्ल वि [तुल्य] समान, समीक्षा (नगः प्राप् १२; १४६)।

तुवट्ट देखो तुयट्ट। तुवट्टे (वव ४)।

तुवट्ट पुं [त्वग्वर्त] शयन, लेटना (वव ४)।

तुवर श्रक [त्वर्] त्वरा होना, शीघ्र होना, तेज होना। तुवरइ (हे ४, १७०)। वक्र.

तुवरंत (हे ४, १७०)। प्रयो. वक्र. तुवराअंत (नाट—मातवी ५०)।

तुवर पुंन [तुवर] १ रस-विशेष, कपाय रस (दे ५, १६)। २ वि. कपाय रसवाला, कसेला (से ८, ५५)।

तुवरा देखो तुरा (नाट—महावीर २७)।

तुवरी बी [तुवरी] श्रन्न-विशेष, श्रहर (श्रा १८; गा ३५८)।

तुस पुं [तुप] १ कोदव—कोदव या कोदो आदि कुच्छ धान्य (ठा न)। २ धान्य का छिलका, भूसी (दे २, ३६)।

तुसणीअ वि [तूणीक] मीनी (अक्र १७६)।

तुसली बी [दे] धान्य-विशेष, 'तं तत्ववि तो तुसलि वावइ सो फिणिवि वरवीयं' (सुपा ५४५); 'देवमिहे जंतीए तुज्ज तुसली अणुरणाय' (सुपा १३ टि)।

तुसार न [तुवार] हिम, बर्फ, पाला (पात्र)। १ कर पुं [कर] चन्द्र, चन्द्रमा (सुपा ३३)।

तुसारअर देखो तुसारअर (त्रि १०३)।

तुसिण देखो तुसणीअ (संबोध १७)।

तुसिणिय } वि [तूणीक] मीनी, उप,  
तुसिणीय } वचन-रहित (णाय १, १—  
पत्र २८; ठा ३, ३)।

तुसिणी अ [तूणीम्] मीन, चुपी; 'तइया तुसिणीए भुंजए पडमो' (पिड १२२; ३१३)।

तुसिय पुं [तुपित] लोकात्मिक देवों की एक जाति (णाय १, ८; सम ८५)।

तुसेअजंभ न [दे] दाघ, लकड़ी, काष्ठ (दे ५, १६)।

तुसोदग } न [तुपोदक] श्रीहि आदि का  
तुसोदय } धौत-जल—बोधन (राज; कप्य)।

तुस्स देखो तूस = तुप्। तुस्सइ (विते ६३२)।

तुहं स [त्वनं] तुम। १ तणय वि [संवनियन्] तुम्हारा, तुमसे संबन्ध रखनेवाला (सुपा ५५३)।

तुहग पुं [तुहग] कन्द की एक जाति (उत्त ३६, ६६)।

तुहार (अप) वि [त्वदीय] तुम्हारा (हे ४, ४३४)।

तुहिण न [तुहिन] हिम, तुपार, बर्फ (पात्र)। १ इरि पुं [गिरि] हिमाचल पर्वत (गडड)।

१ कर पुं [कर] चन्द्रमा (कप्पु)। १ गिरि देखो इरि (सुपा ६५८)। १ लिय पुं [लय] हिमालय पर्वत (सुपा ८८)।

तुहिणायल पुं [तुहिनाचल] हिमालय पर्वत (धर्मवि २४)।

तूअ पुं [दे] ईश का काम करनेवाला (दे ५, १६)।

तूण पुंन [तूण] इपुधि, भाया, तरकस, तूणीर (हे १, १२५; पड; कुमा)।

तूणइह पुं [तूणावत्] तूणा नामक वाद्य बजानेवाला (परह २, ४; श्रौप; कप्य)।

तूणय पुं [तूणह] वाद्य-विशेष (अचा २, ११, १)।

तूणा } श्री [तूणा] १ वाद्य-विशेष (राज;  
तूणि) } अणु)। २ इपुधि, भाया (जं ३; पि १२७)।

तूयरी बी [तूयरी] रहर, श्रहर (पिड ६२३)।

तूर देखो तुरव। तूरइ (हे ४, १७१; पड)। वक्र. तूरंत, तूरंत, तूरमाण, तूरमाण (हे ४, १७१; सुपा २६१; पड)।

तूर पुंन [तूर] वाद्य, वाजा, तूरशो (हे २, ६३; पड, पात्र)। १ वइ पुं [पति] नदों का नदों का मुखिया (वृह १)।

तूरंत } देखो तूर = तुरव।  
तूरमाण }

तूरविअ वि [त्वरित] जिसको शीघ्रता करवाई गई हो वह (से १२, ८३)।

तूरिय पुं [तूरियिक] वाद्य बजानेवाला, वजनिया (स ७०५)।

तूरी बी [दे] एक प्रकार की मिट्टी (बी ४)।

तूरंत } देखो तूर = तुल्य।  
तूरमाण }

तूल न [तूल] रई, लमा, बीज-रहित कपाय (श्रौप; पात्र; भवि)।

तूलिअ न. नीचे देखो; 'नणु विलासिअइ महग्घियं तूलियं गंतुयमाइयं' (महा)।

तूलिआ बी [तूलिका] १ रई से बरा मोटा चिड़ौना, गहा, तोसक (दे ५, २२)। २ तस-वीर—चित्र बनाने की कलम (णाय १, ८)।

तूलिणी बी [दे] वृक्ष-विशेष, शालमली का पंड़ (दे ५, १७)।

तूलिइ वि [तूलिकावत्] तसवीर बनाने की कलमवाला, कूचिका-सुक्त (गडड)।

तूली बी [तूली] देखो तूलिआ (सुर २, ८२; पचम ३५, २४; सुपा २६२)।

तूवर देखो तुवर (विपा १, १—पत्र १६)।

तूस श्रक [तुप्] बुरा होना। तूसइ, तूसए (हे ४, २३६; संकि ३६; पड)। वक्र. तूसियव्य (परह २, ५)।

तूह देखो तित्थ (हे १, १०४; २, ७२; कुमा; दे ५, १६)।

तूहण पुं [दे] पुरुष, आदमी (दे ५, १७)।  
 ते° देखो ति = त्रि। °आलीस खीन  
 [°चत्वारिंशत्] १ संख्या-विशेष, चालीस  
 और तीन की संख्या। २ त्रेमालीस की  
 संख्यावाला (सम ६८)। °आलीसइम वि  
 [°चत्वारिंश] त्रेमालीसवां, ४३वां (पउम ४३,  
 ४६)। °आसी स्त्री [°अशीति] १ संख्या-  
 विशेष, अस्ती और तीन। २ तिरासी की  
 संख्यावाला (पि ४४६)। °आसीइम वि  
 [°अशीतितम] तिरासीवां (सम ८६; पउम  
 ८३, १४)। °इंद्रिय पुं [°इन्द्रिय] स्पर्श,  
 जीभ और नाक इन तीन इंद्रियवाला प्राणी  
 (ठा २, ४; जी १७)। °ओय पुं  
 [°ओजस्] विपम राशि-विशेष (ठा ४,  
 ३)। °णउइ स्त्री [°नवति] तिरानवे, नव्हे  
 और तीन, ६३ (सम ६७)। °णउय वि  
 [°नवत] तिरानवेवां, ६३ वां (कप्प; पउम  
 ६३, ४०)। °णउइ देखो °णउइ (सुपा  
 ६५४)। °तीस, °तीस खीन [त्रयस्त्रिं-  
 शत्] तेतीस, तीस और तीन (भग; सम  
 ५८)। स्त्री. °सा (हे १, १६५; पि ४४७)।  
 °तीसइम वि [त्रयस्त्रिंश] तेतीसवां (पउम  
 ३३, १४८)। °वट्टि स्त्री [पट्टि] तिरसठ,  
 साठ और तीन, ६३ (पि २६५)। °वण्ण, °वन्न  
 खीन [°पञ्चाशत्] त्रेपन, पचास और  
 तीन, ५३ (हे २, १७४; पड्; सम ७२)।  
 °वत्तरी स्त्री [°सप्तति] विहत्तर (पि २६५)।  
 °वीस खीन [त्रयोविंशति] तेइस, वीस और  
 तीन, २३ (सम ४२; हे १, १६५)। °वीस,  
 °वीसइम वि [त्रयोविंश] तेइसवां (पउम  
 २०, ८२; २३, २६; ठा ६)। °संस्क न  
 [°सन्व्य] प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल का  
 समय (पउम ६६, ११)। °सट्टि स्त्री  
 [°पट्टि] देखो °वट्टि (सम ७७)। °सीइ  
 स्त्री [°अशीति] तिरासी, अस्ती और तीन  
 (सम ८६; कप्प)। °सीइम वि [°अशीत]  
 तिरासीवां (कप्प)।  
 तेअ सक [तेजय] तेज करना, पैनाना, धार  
 तेज करना, तीव्रण करना। तेइय (पड्)।  
 तेअ देखो तइइ = तृतीय (रंभा)।  
 तेअ पुं [तेजस्] १ कान्ति, दीप्ति, प्रकाश,  
 प्रभा (उवा; भग; कुमा; ठा ८)। २ ताप,

अग्निताप (कुमा; सुअ १, ५, १)। ३ प्रताप।  
 ४ माहात्म्य, प्रभाव। ५ बल, पराक्रम  
 (कुमा)। °मंत वि [°विन्] तेजवाला,  
 प्रभा-युक्त (पएह २, ४)। °वीरिय पुं  
 [°वीर्य] भरत चक्रवर्ती के प्रपौत्र का पौत्र,  
 जिसको आदर्श भवन में केवलज्ञान हुआ था  
 (ठा ८)।  
 तेअ न [स्तेय] चोरी (भग २, ७)।  
 तेअ देखो तेअय (भग)।  
 तेअ पुं [?] टेक, स्तम्भ।  
 तेअंसि वि [तेजस्विन्] तेजवाला, तेज-युक्त  
 (श्रीप; रयण ४; भग; महा; सम १५२;  
 पउम १०२, १४१)।  
 तेअग देखो तेअय (जीव)।  
 तेअण न [तेज्ज] १ तेज करना, पैनाना।  
 २ उत्तेज्ज (हे ४, १०४)। ३ वि. उत्तेजित  
 करनेवाला (कुमा)।  
 तेअय न [तेजस] शरीर-सहचारो सूक्ष्म  
 शरीर-विशेष (ठा २, १; ५, १; भग)।  
 तेअलि पुं [तेतलिन्] १ मनुष्य जाति-विशेष  
 (जं १; इक)। २ एक मन्त्री के पिता का  
 नाम (णाय्या १, १४)। °पुत्त पुं [°पुत्र]  
 राजा कनकरय का एक मन्त्री (णाय्या १,  
 १४)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (णाय्या  
 १, १४)। °सुय पुं [°सुत] देखो °पुत्त  
 (राज)। देखो तेतलि।  
 तेअव अक [प्र+दीप्] १ दीपना,  
 चमकना। २ जलना। तेअवइ (हे ४, १५२;  
 पड्)।  
 तेअवाल देखो तेजपाल (हम्मोर २७)।  
 तेअविय वि [प्रदीप्त] जला हुआ (कुमा)।  
 २ चमका हुआ, उदीप्त (पाअ)।  
 तेअविय वि [तेजित] तेज किया हुआ (दे  
 ८, १३)।  
 तेअरिस पुं [तेजस्विन्] इक्ष्वाकु वंश के  
 एक राजा का नाम (पउम ५, ५)।  
 तेआ स्त्री [तेजा] पक्ष की तेरहवां रात  
 (सुज्ज १०, १४)।  
 तेआ स्त्री [तेजस्] त्रयोदशी तिथि (जो  
 ४; जं ७)।

तेआ स्त्री [त्रेता] युग-विशेष, दूसरा युग;  
 'तेआजुगे य दासरही रामो सीयालक्खण-  
 संजुओवि' (ती २६)।  
 तेआ° देखो तेअय (सम १४२; पि ६४)।  
 तेआलि पुं [दे] वृक्ष-विशेष (पएण १,  
 १—पत्र ३४)।  
 तेइच्छ न [चैकित्स्य] चिकित्सा-कर्म,  
 प्रतीकार (दस ३)।  
 तेइच्छा स्त्री [चिकित्सा] प्रतीकार, इलाज,  
 दवा (आचा; णाय्या १, १३)।  
 तेइच्छिय देखो तेगिच्छिय (विपा १, १)।  
 तेइच्छी स्त्री [चिकित्सा, चैकित्सी]  
 प्रतीकार, इलाज (कप्प)।  
 तेइज्जग वि [तार्तीयक] १ तीसरा। २  
 ज्वर-विशेष, जाड़ा देकर तीसरे-तीसरे दिन  
 पर आनेवाला ज्वर, तिजारा (उत्तनि ३)।  
 तेइल्ल देखो तेअंसि (सुर ७, २१७; सुपा  
 ३३)।  
 तेउ पुं [तेजस्] १ आग, अग्नि (भग; दं  
 १३)। २ लेश्या-विशेष, तेजो-लेश्या (भग;  
 कम्म ४, ५०)। ३ अग्निशिख नामक इन्द्र  
 का एक लोकपाल (ठा ४; १)। ४ ताप,  
 अग्निताप (सुअ १, १, १)। ५ प्रकाश;  
 उद्योद (सुअ २, १)। °आय देखो °काय  
 (भग)। °कंत पुं [°कान्त] लोकपाल देव-  
 विशेष (ठा ४, १)। °काइय पुं [°कायिक]  
 अग्नि का जीव (ठा ३, १)। °काय पुं  
 [°काय] अग्नि का जीव (पि ३५५)।  
 °ककाइय देखो °काइय (पएण १; जीव  
 १)। °पपभ पुं [°प्रभ] अग्निशिख नामक  
 इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १)। °पफास  
 पुं [°स्पर्श] उष्ण स्पर्श (आचा)। °लेस  
 वि [°लेश्य] तेजो-लेश्यावाला (भग)।  
 °लेसा स्त्री [°लेश्या] तप-विशेष के प्रभाव  
 से होनेवाली शक्ति-विशेष से उत्पन्न होती  
 तेज की ज्वाला (ठा ३, १; सम ११)।  
 °लेस देखो °लेस (पएण १७)। °लेससा  
 देखो °लेसा (ठा ३, ३)। °सिह पुं  
 [°शिख] एक लोकपाल (ठा ४, १)।  
 °सोय न [शौच] भस्म आदि से किया  
 जाता शौच (ठा ५, २)।

तेउ देखो तेअय (पव २३१) ।

तेहुअ न [दे] वृक्ष-विशेष, टींवरु का पेड़ (दे ५, १७) ।

तेहु पुं [तिन्दुक] ? वृक्ष-विशेष, तेहु  
तेहुअ का पेड़ (पण्य १; ठा ८; पउम  
तेहुग ४२, ७) । २ गेंद, कन्दुक (पउम  
१५, १३) ।

तेहुमय पुं [दे] कन्दुक, गेंद (गाया १, ८) ।  
तेवरु पुं [दे] ध्रुव कीट-विशेष, श्रीन्द्रिय जन्तु  
की एक जाति (जीव १) ।

तेगिच्छ देखो तेइच्छ (सुर १२, २११) ।  
तेगिच्छग वि [चिकित्सक] ? चिकित्सा  
करनेवाला । २ पुं. वैद्य, हकीम (उप ५६४) ।

तेगिच्छा देखो तेइच्छा (सुर १२, २११) ।  
तेगिच्छायण देखो तिगिच्छायण (राज) ।  
तेगिच्छि देखो तिगिच्छि (राज) ।

तेगिच्छिय वि [चिकित्सक] ? चिकित्सा  
करनेवाला । २ पुं. वैद्य, हकीम । ३ न.  
चिकित्सा-कर्म, प्रतीकार-करण । °साला छी  
[°शाला] दवाखाना, चिकित्सालय (गाया  
१, १३—पत्र १७६) ।

तेजचारीस देखो ते-आलीस (प्राक् ३१) ।

तेज देखो तेज = तेज्य । तेजई, (प्राक् ७५) ।

तेज पुं [तेज] देश-विशेष (सम्मत २१६) ।

तेजसि देखो तेअंसि (पि ७४) ।

तेजपाल पुं [तेजपाल] गुजरात के राजा  
वीरबल का एक यशस्वी मंत्री (ती २) ।

तेजलपुर न [तेजलपुर] गिरनार पर्वत के  
पास मंत्री तेजपाल का बसाया हुआ एक  
नगर (ती २) ।

तेजसि देखो तेअंसि (वव १) ।

तेज्ज (अप) देखो चय = स्वज् । तेज्ज (पिग) ।  
संज्ञ. तेज्जअ (पिग) ।

तेज्जिअ (अप) वि [त्यक्त] छोड़ा हुआ  
(पिग) ।

तेड चक [दे] बुलाना । तेडति (सम्मत  
१६१) ।

तेहु पुं [दे] ? शलभ, अन्न-नाशक कीट,  
टिड्डी । २ पिशाच, राक्षस (दे ५, २३) ।

तेण अ [तेन] ? लक्षण-सूचक अव्यय, 'अम-  
रच्छं तेण कमलवर्णं' (हे २, १८३; कुमा) ।  
२ उस तरफ (भग) ।

तेण पुं [स्तेन] चोर, तस्कर (श्रीघ  
तेणग ११; कस; गच्छ ३; श्रीघ ४०२) ।  
तेणय °पपओग पुं [°प्रयोग] ? चोर को  
चोरी करने के लिए प्रेरणा करना । २ चोरी  
के साधनों का दान या विक्रय (वर्म २) ।

तेणिय न [स्तेन्य] चोरी, अदत्त वस्तु  
तेणिकक का ग्रहण (आ १:४; श्रीघ ५६६;  
पण्य १, ३) ।

तेणिस वि [तेनिश] तिनिशवृक्ष-संबन्धी, वंत  
का (भग ७, ६) ।

तेणो छी [स्तेना] चोर-छी (सम्मत १६१) ।  
तेणन [स्तेन्य] चोरी, पर-द्रव्य का अपहरण  
(निवृ १) ।

तेण्हाइअ वि [वृष्णित] वृष्णा-युक्त, प्यासा  
(से १३, ३६) ।

तेतलि पुं [तेतलिन्] ? धरणीन्द्र के गन्धर्व-  
सेना का नायक (इक) । २ देखो तेअलि  
(गाया १, १४—पत्र १६०) ।

तेतिल देखो तीइल (जं ७) ।

तेत्तिअ वि [तावत्] उतना (प्राप्र; गउड;  
गा ७१; कुमा) ।

तेत्तिक (शौ) देखो तेत्तिअ (प्राक् ६५) ।

तेत्तिर देखो तित्तिर (जीव १) ।

तेत्तिल वि [तावत्] उतना (हे २, १५७;  
कुमा) ।

तेत्तिल न [तेतिल] ज्योतिष-प्रसिद्ध करण-  
विशेष (सूधनि ११) ।

तेत्तल (अप) ऊपर देखो (हे ४, ४०७;  
तेत्तुइ) कुमा; हे ४, ४३५ टि) ।

तेत्थु (अप) देखो तत्थ = तत्र (हे ४, ४०४;  
कुमा) ।

तेदह देखो तेत्तिल (हे २, १५७; प्राप्र; पड;  
कुमा) ।

तेद देखो तेणग (कस) ।

तेम (अप) देखो तह = तथा (पिग) ।

तेमासिअ वि [त्रैमासिक] ? तीन महीने में  
होनेवाला (भग) । २ तीन मास-संबन्धी (सुर  
६, २११; १४; २२८) ।

तेम्य देखो तेम (हे ४, ४१८) ।

तेर वि [त्रयोदश] तेरहवां (कम्म ६, १६) ।

तेर (अप) वि [त्वदीय] तेरा, तुम्हारा (प्राक्  
१२०) ।

तेर } वि. व. [त्रयोदशन्] तेरह, दस  
तेरस } और तीन (आ ४४; वं २१; कम्म  
२, २६; ३३) ।

तेरच्छ देखो तिरिच्छ = तिर्यच् (प्राक् १६) ।

तेरस देखो तेरसम (कम्म ६, १६; पव ४६) ।

तेरसम वि [त्रयोदश] तेरहवां (सम २५;  
गाया १, १—पत्र ७२) ।

तेरसया छी [दे] जैन मुनिग्रंथों की एक शाखा  
(कण्) ।

तेरसी छी [त्रयोदशी] ? तेरहवां । २ तिरि-  
विशेष, तेरस (सम २६; सुर ३, १०५) ।

तेरसुत्तरसय वि [त्रयोदशोत्तरशततम]  
एक सौ तेरहवां, ११३ वां (पउम ११३,  
७२) ।

तेरह देखो तेरस (हे १, १६५; प्राप्र) ।

तेरासि पुं [त्रैराशिक] ननुसक (पिड ५७३) ।

तेरासिअ वि [त्रैराशिक] ? मत-विशेष का  
अनुयायी, त्रैराशिक मत—जीव, अजीव और  
नोजीव इन तीन राशियों को मानने वाला  
(श्रीघ; ठा ७) । २ न. मत विशेष (सम  
४०; वित्ते २४५१; ठा ७) ।

तेरिच्छ देखो तिरिच्छ = तिर्यच् (पव ३८) ।

तेरिच्छ देखो तिरिच्छ = तिरिथीनः दिव्यं  
व मणुस्सं वा तेरिच्छं वा सरागहिअएणं  
(आप २१) ।

तेरिच्छ न [तिर्यकृत्य] तिर्यचपन, पयु-  
पक्षिपन (उप १०३१ टी) ।

तेरिच्छिअ वि [तेरिच्छिअ] तिर्यक्-संबन्धी  
(श्रीघ २६६; भग) ।

तेल न [तेल] ? गोत्र-विशेष, जो माण्डव्य  
गोत्र की एक शाखा है (ठा ७) । २ तिन  
का विकार, तेल (संज्ञि १७) ।

तेलंग पुं. व. [तेलङ्ग] ? देश-विशेष । २  
पुं. देश-विशेष का निवासी मनुष्य, तेलंगी  
(पिग) ।

तेलाडी छी [तेलाटी] कीट-विशेष, गंधोली  
(दे ७, ८४) ।

तेलुक न [त्रैलोक्य] तीन जगत—स्वर्ग,

तेलोअ मर्त्य और पाताल लोक (प्रासु ६७;

तेलोक्क प्राप्र; गाया १, ४; पउम ८, ७६;

हे १, १५८, २, ६७; पड, संज्ञि १७) ।

देसि वि [दशिन] सर्वज्ञ, सर्वदर्शी

(श्रौच ५६६) । °णाह पुं [°नाथ] तीनों जगत् का स्वामी, परमेधर (पङ्) । °मंडण न [°मण्डन] १ तीनों जगत् का भूषण । २ पुं. चरण का पट्ट-हस्ती (परम २०, ६०) ।

तेह न [तेल] तेल, तिल का विकार, स्निग्ध द्रव्य-विशेष (हे २, २८; अणु पव ४) । °केला त्री [°केला] मिट्टी का भाजन-विशेष (राज) । °पह न [°पल्य] तैल रखने का मिट्टी का भाजन-विशेष (दसा १०) । °पाइया त्री [°पायिका] क्षुद्र जन्तु-विशेष (आवम) ।

तेह्य न [तेलक] सुरा-विशेष (जीव ३) ।

तेह्यअ पुं [तेलिक] तेल बेचनेवाला (वव २) ।

तेह्येअ } देखो तेलुक (पि १६६; प्राप्र) ।

तेवँ } (अप) देखो तह = तथा (हे ४, तेवँइ } ३६७; कुमा) ।

तेवट्ट वि [ट्रेपट्ट] तिरसठ की संख्यावाला, जिसमें तिरसठ अधिक हो ऐसी संख्या: 'तिवि तेवट्टाई पावाट्टयसयाई' (पि २६५) ।

तेवड (अप) वि [तायत्] उतना (हे ४, ४०७, कुमा) ।

तेवण्णासा त्री [त्रिपञ्चाशन्] त्रेपन, ५३ (प्राक ३१) ।

तेवीसइ त्री [त्रतोविशति] तेदेस (प्राक ३१) ।

तेवुत्तरि देखो ते-वत्तरि (कन्न ५, ४) ।

तेह (अप) वि [ताट्ट] उसके जैसा, वैसा (हे ४, ४०२; पङ्) ।

तेहिं (अप) अ. वास्ते, लिए (हे ४, ४२५; कुमा) ।

तेहिय वि [त्र्यादिक] तीन दिन का (जीवस ११६) ।

तेहुत्तरि देखो ते-वत्तरि (अणु १७६) ।

तो देखो तथो (आचा: कुमा) ।

तो अ [तत्रा] तत्र, उस समय (कुमा) ।

तोअय पुं [दे] चातक पक्षी (दे ५, १८) ।

तौड देखो तुंड (हे १, ११६; प्राप्र) ।

तौतडि त्री [दे] कर्मन्व, वही-भात की बनी हुई एक खाद्य वस्तु (दे ५, ४) ।

तोक्कय वि [दे] बिना-ही कारण तत्पर होने-वाला (दे ५, १८) ।

तोक्खार देवो तुक्खार: खुखुरखयवोणीय-लअसंखतोक्खारलंक्खुओ' (सुर १२, ६१) ।

तोटाअ न [त्रोटक] छन्द-विशेष (पिंग) ।

तोड सक [तुड्] १ तोड़ना, भेदन करना । २ अक. हटना । तोडइ (हे ४, ११६) । वक.

तोडंत (भवि) । संक. तोडिडं (भवि), तोडित्ता (तो ७) ।

तोड पुं [त्रोड] युटि (उप पृ १८) ।

तोडण वि [दे] असहन, असहिष्णु (दे ५, १८) ।

तोडण न [तोदन] व्यथा, पीड़ा-करण (राज) ।

तोडर न [दे] टोडर, माल्य-विशेष (तिरी १०२३) ।

तोडहिआ त्री [दे] वाद्य-विशेष (आचा २, ११) ।

तोडिअ वि [त्रोटित] तोड़ा हुआ (महा: सण) ।

तोडु पुं [दे] क्षुद्र कोट-विशेष, चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (राज) ।

तोण पुंन [तूण] शरदि, भाया, तरकच, तूणार (पाप्र; श्रौप; हे १, १२५; विपा १, ३) ।

तोणार पुंन [तूणार] शरदि, भाया (पाप्र, हे १, १२४; भवि) ।

तोत्त न [तोत्र] प्रतोट, बैल को मारने या हकने का वांस का आयुध-विशेष; पैना, तांटा, चाडुक (पाप्र; दे ३, १६; सुपा २३७; सुर १४, ५१) ।

तोत्तडि [दे] देखो तांतडि (पाप्र) ।

तोदग वि [तोदक] व्यथा उपजानेवाला, पीड़ा-कारक (उत्त २०) ।

तोमर पुंन [दे. तोमर] मधुपुडा, मधुमक्खी का घर या छता; अह उड्डियाउ तोमर मुहाउ महुमक्खियाउ सव्वतो' (धर्मवि १२४) ।

तोमर पुं [तोमर] १ वाण-विशेष, एक प्रकार का वाण (पणह १, १; सुर २, २८; श्रौप) । २ न. छन्द-विशेष (पिंग) ।

तोमरिअ पुं [दे] १ शत्रु का प्रमार्जन करने-वाला (दे ५, १८) । २ शत्रु-मार्जन (पङ्) ।

तोमरिगुंडी त्री [दे] वल्ली-विशेष (पाप्र) ।

तोमरी त्री [दे] वल्ली, लता (दे ५, १७) ।

तोम्हार (अप) देखो तुम्हार (पि ४३४) ।

तोय न [तोय] पानी, जल (पणह १, ३; ववा १४; दे २, ४७) । °धरा, धारा, त्री

[°धारा] एक दिक्कुमारी देवी (इक; ठा ८) ।

°पट्ट, °पिट्ट न [°पृष्ट] पानी का उपरि-भाग (पणह १, ३; श्रौप) ।

तोय पुं [तोद] व्यथा, पीड़ा (ठा ४, ४) ।

तोरण न [तोरण] १ द्वार का अवयव-विशेष, बहिर्द्वार (गा २६२) । २ वन्दनवार, फूल या पत्तों की माला (भालर) जो उदसव में लटकाई जाती है (श्रौप) । °उर न [°पुर] नगर-विशेष (महा) ।

तोरविअ वि [दे] उत्तेजित (पाप्र; कुप्र १६२) ।

तोरामदा त्री [दे] नेत्र का रोग-विशेष (महानि ३) ।

तोल देखो तुल = तोलय् । तोलइ, तोलेइ (पिंग; महा) । वक. तोलंत (ववा १५८) ।

कवक. तोलिजमाण (सुर १५, ६४) । क. तोलियव्व (स १६२) ।

तोल पुंन [दे] मगध-देश प्रसिद्ध पल, परिमाण-विशेष (तंडु) ।

तोलण पुं [दे] मृत्प, आदमी (दे ५; १७) ।

तोलण न [तोलन] तौल करना, तौलना, नाप करना (राज) ।

नोलिय वि [तोलिन] तौला हुआ (महा) ।

तोह न [तौल्य, तौल] तौल, वजन (कुप्र १४६) ।

तोवट्ट पुं [दे] १ कान का आभूषण-विशेष । कमल की करणिका (दे ५, २३) ।

तोस सक [तोपय्] बुझी करना, सन्तुष्ट करना । तोसइ (उव) । कर्म, तोसिजइ (गा ५०८) ।

तोस पुं [तोप] बुझी, आनन्द, संतोप (पाप्र; सुपा २७५) । °थर वि [°कर] संतोप-कारक (काल) ।

तोस न [दे] वन, दौलत (दे ५, १७) ।

तोसलि पुं [तोसलिन] १ ग्राम-विशेष । २ देश-विशेष । ३ एक जैन आचार्य (राज) ।



°पुत्त [°पुत्त] एक प्रक प्रसिद्ध जैन आचार्य (आवम) ।  
तोसलिय पुं [तोसलिक] तोसलि-ग्राम का अधीश क्षत्रिय (आवम) ।  
तोसविअ } वि [तोपित] बुझ किया हुआ,  
तोसिअ } संतोपित (हे ३, १५०; पचम ७७, ८८) ।  
तोहार (अप) देखो तुहार (पिग; पि ४३४) ।  
°त्त वि [°त्त] त्राण-कर्ता, राक्षक; 'सकलत्तं संतुट्ठो सकल तो सो नरो होइ' (सुपा ३६६) ।  
°त्तण देखो तण (से १, ६१) ।

°त्ति अ [ इति ] उपालम्भ-सूचक अव्यय (प्राक् ७८) ।  
°त्ति देखो इअ = इति (कप्प; स्वप्न १०; सण) ।  
°त्थ देखो एत्थ (गा १३२) ।  
°त्थ वि [°त्थ] स्थित, रहा हुआ (आचा) ।  
°त्थ देखो अत्थ (वाअ १५) ।  
°त्थअ देखो थय = स्तुत (से १, १) ।  
°त्थउड देखो थउड (गउड) ।  
°त्थंव देखो थंव (चाह २०) ।  
°त्थंभ देखो थंभ (कुमा) ।  
°त्थंभण देखो थंभण (वा १०) ।

°त्थरु देखो थरु (पि ३२७) ।  
°त्थल देखो थल (काप्र ८७) ।  
°त्थली देखो थली (पि ३८७) ।  
°त्थव देखो थव = स्तु । वक्र. °त्थवंत (नाट) ।  
°त्थवअ देखो थवय (से १, ४०; नाट) ।  
°त्थाण देखो थाण (नाट) ।  
°त्थाल देखो थाल (कुमा) ।  
°त्थिअ देखो थिअ (गा ४२१) ।  
°त्थिर देखो थिर (कुमा) ।  
°त्थोअ देखो थोअ (नाट—वेणी २४) ।

॥ इअ तिरिपाइअसदमहणवम्मि तयाराइसदसंकलणो  
तेवीसइमो तरंगो समत्तो ॥

## थ

थ पुं [थ] दन्त-स्थानीय व्यञ्जन-विशेष (प्राप; प्रामा) ।  
थ अ. १-२ वाक्यालंकार और पाद-भूति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय; 'कि थ तयं पम्हुइं जं थ तथा भो जयंत पवरम्मि' (गाया १, १—पत्र १४८; पंचा ११) ।  
°थ देखो एत्थ (गा १३१; १३२; सण) ।  
थइअ वि [स्थगित] आच्छादित, ढका हुआ (से ५, ४३; गा ५७०) ।  
थइअ } स्त्री [स्थगिका] पानदानी, पान  
थइआ } रखने का पात्र, पानदान (महा) । °इत्त  
पुं [°वत्] ताम्बूल-पात्र-वाहक नौकर (कुप्र ७१) । °धर पुं [°धर] ताम्बूल-पात्र का वाहक नौकर (सुपा १०७) । °वाहक पुं [°वाहक] पानदानी का वाहक नौकर (सुपा १०७) । देखो थगिय° ।  
थइआ स्त्री [दे] बैली, थैली, कोयली या बसनी—कमर में बाँधने की रूपों की बैली 'संवलथइप्रासणाहो', 'दंसिया संवलथ्वई (? इ) या' (कुप्र १२; ८०) ।  
थइउं देखो थय = स्वगय ।

थउड न [स्थपुट] १ विषम और उन्नत प्रदेश (दे २, ७८) । २ वि. नीचा-ऊँचा (गउड) ।  
थउडिअ वि [स्थपुटित] १ विषम और उन्नत प्रदेशवाला । २ नीचा-ऊँचा प्रदेशवाला (गउड) ।  
थउडु न [दे] मल्लातक, वृक्ष-विशेष, भिलावा (दे ५, २६) ।  
थंग सक [उद् + नामच्] ऊँचा करना, उन्नत करना । थंगइ (प्राक् ३५) ।  
थंडिल न [स्थण्डिल] १ शुद्ध भूमि, जन्तु-रहित प्रदेश (कस; निच्च ४) । २ क्रोध, गुस्सा (सूअ १, ६) ।  
थंडिल पुं [स्थण्डिल] क्रोध, गुस्सा (सूअ १, ६, १३) ।  
थंडिल न [स्थण्डिल] शुद्ध भूमि (सुपा ५५८; आचा) ।  
थंडिल न [दे] मण्डल, वृत्त प्रदेश (दे ५, २५) ।  
थंत देखो था ।

थंव वि [दे] विषम, असम (दे ५, २४) ।  
थंव पुं [स्तम्भ] वृणु आदि का गुच्छ (दे ८, ४६; श्रोध ७७१; कुप्र २२३) ।  
थंभ अक [स्तम्भ] १ ढकना, स्तम्भ होना, स्थिर होना, निरचल होना । २ सक. क्रिया-निरोध करना, अटकाना, रोकना, निरचल करना । थंभइ (भवि) । कर्म. थंभिज्जइ (हे २, ६) । संक्र. थंभिउं (कुप्र ३८५) ।  
थंभ पुं [स्तम्भ] घेरा, 'थंभतित्वत्थंभतयं एइ रोसप्पसरकलुसिओ नाह संगामसीहो' (हम्मौर २२) । °तित्य न [°तीर्थ] एक जैन तीर्थ (हम्मौर २२) ।  
थंभ पुं [स्तम्भ] १ स्तम्भ, घग्गा, खग्गा (हे २, ६; कुमा; प्रासू ३३) । २ अभिमान, गर्व, अहंकार (सूअ १, १३, उत ११) । °विज्जा स्त्री [°विद्या] स्तम्भ—वेहोश या निरचेष्ट करने की विद्या (सुपा ४६३) ।  
थंभण न [स्तम्भन] १ स्तम्भ-करण, घग्गाना (विसे ३००७, सुपा ५६६) । २ स्तम्भ करने का मन्त्र (सुपा ५६६) । ३

युरात का एक नगर, जो राजकल 'खंभात' नाम से प्रसिद्ध है (ती ५१)। 'पुर' न [°पुर] नगर-विशेष, खंभात (सिम्घ १)।  
 थंभगया वी [स्तम्भन] स्तम्भ-करण (ठा ४, ४)।  
 थंभणिया वी [स्तम्भनिका] विद्या-विशेष (धर्मवि १२४)।  
 थंभणी वी [स्तम्भनी] स्तम्भन करनेवाली विद्या-विशेष (गया १, १६)।  
 थंभय देखो थंभ = स्तम्भ (कुमा)।  
 थंभिय वि [स्तम्भित] १ स्तम्भ किया हुआ, थमाया हुआ (कुप्र १४१; कुमा; कप्प; श्रौप)। २ जो स्तम्भ हुआ हो, अवपृच्छ (स ४६४)।  
 थक्क थक [स्था] रहना, बैठना, स्थिर होना। थक्कइ (हे ४, १६; पिग)। भवि. थक्कत्सइ (पि ३०६)।  
 थक्क अक [फक्] नीचे जाना। थक्कइ (हे ४, ८७)।  
 थक्क अक [श्रम्] थकना, थान्त होना। थक्कति (पिग)।  
 थक्क वि [स्थित] रहा हुआ (कुमा; वज्जा ३८; सुपा २३७; आरा ७७; सट्टि ६)।  
 थक्क पुं [दे] १ अवसर, प्रस्ताव, समय (दे ५, २४; वव ६; महा; विसे २०६३)। २ वि. थका हुआ, थान्त; 'थक्कं सव्वशरीरं हियए सुलं सुद्धसहं एइ' (सुर ७, १८५, ४ १६५)।  
 थक्किअ वि [थान्त] थका हुआ (पिग)।  
 थक्कव सक [स्थापय] स्थापन करना, रखना। थक्कवइ (प्राक् १२०)।  
 थय देखो थय = स्वयय्। भवि. थयइस्सं (पि २२१)।  
 थयण न [स्थगन] पिचान, ढकना, संवरण, आवरण, आच्छादन, पदां (दे २, ८३; ठा ४, ४)।  
 थयथय अक [थयथगाय] घड़कना, कांपना। वक्क. थयथगित (महा)।  
 थयिय वि [स्थगित] पिहित, आच्छादित, आवृत (दस ५, १; आवम)।  
 थयिय° देखो थइअ°। 'ग्गाहि पुं [°प्राहिन्] ताम्बूल-वाहक नौकर (सुपा ३३६)।

थगया वी [दे] चंडू, चोंच (दे ५, २६)।  
 थग्य सक [स्ताघ्] जल की गहराई को नापना। कर्म. थग्यजए (पव ८१)।  
 थग्य पुं [दे] थाह, तला, पानी के नीचे की भूमि, गहराई का अन्त, सीमा (दे ५, २४)।  
 थग्घा वी [दे] ऊपर देखो (पाअ)।  
 थट्ट पुंन [दे] १ ठठ, भीड़, झुएड, समूह, युय, जत्या; 'दुद्धरतुरंगयट्टा' (सुपा २८८), 'विहडइ लहु दुडुनिट्टुदोषट्टयट्ट' (लहुअ ४)। २ ठठ, ठाट, तड़क-भड़क, सजयज, आडम्बर (भवि)।  
 थट्टि वी [दे] पशु, जानवर (दे ५, २४)।  
 थड पुंन [दे] ठठ, युय, समूह (भवि)।  
 थड्ड वि [स्तम्भ] १ निश्चल। २ अभिमानो गविष्ठ (सुपा ४३७; ५८२)।  
 थड्डिअ वि [स्तम्भित] १ स्तम्भ किया हुआ। २ स्तम्भ, निश्चल। ३ न. गुरु-वन्दन का एक दोष; अकइ कर गुरु को किया जाता प्रणाम (गुभा २३)।  
 थण अक [स्तन्] १ गरजना। २ आकन्द करना, चिल्लाना। ३ आक्रोश करना। ४ जोर से नीसास लेना। वक्क. थणति (गा २६०)।  
 थण पुं [स्तन] थन, कुच, पयोधर, चूनी (आचा; कुमा; काप्र १६१)। 'जीवि वि [°जीविन्] स्तन-पान पर निभनेवाला बालक (आ १४)। 'वई वी [°वती] वड़े स्तनवाली (गडड)। 'विसारि वि [°विसारिन्]। स्तन पर फैलनेवाला (गडड)। 'सुत्त न [°सूत्र] उरः-सूत्र (दे)। 'हर पुं [°भर] स्तन का भार या बोझ (हे १, १८६)।  
 थणंघय पुं [स्तनंघय] स्तन-पान करनेवाला बालक, छोटा बच्चा; 'निययं थणं घयंतं थणंघयं हंदि पिच्छंति' (सुर १०, ३७; अचु ६३)।  
 थणण न [स्तनन] १ गर्जन, गरजना (सूअ १, ५, २)। २ आक्रन्द, चिल्लाहट (सूअ १, ५, १)। ३ आक्रोश, अभिराप (राज)। ४ आवाजवाला नीसास (सूअ १, २, ३)।  
 थणय पुं [स्तनक] दूसरी-नरक-भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ६)।

थणलोलुअ पुं [स्तनलोलुप] दूसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ७)।  
 थणिय पुं [स्तनित] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ६, २६)।  
 थणिय न [स्तनित] १ मेघ का गर्जन (वजा १२; दे ५, २७)। २ आक्रन्द, चिल्लाहट (सम १५३)। ३ पुं. भवनपति देवों की एक जाति (श्रौप; परह १, ४)। 'कुमार पुं [°कुमार] भवनपति देवों की एक जाति (ठा १. १)।  
 थणिल्ल सक [चोरय] चुराना, चोरी करना। थणिल्लइ (प्राक् ७२)।  
 थणिल्ल वि [स्तनयत्] स्तनवाला (कप्प)।  
 थणुअ पुं [स्तनक] छोटा स्तन (गडड)।  
 थणु देखो थाणु (गा ४२२)।  
 थण्ठिअ न [दे] विश्राम (दे ५, २६)।  
 थद्ध देखो थड्ड (सम ५१; गा ३०४, वज्जा १०)।  
 थन्न न [स्तन्य] स्तन का दूध। 'जीवि वि [°जीविन्] छोटा बच्चा (सुपा ६१६)।  
 थप्प सक [स्थापय] रखना, थप्पी करना। थप्पइ (सिरि ८६७)।  
 थप्पण न [स्थापन] न्यास, न्यसन (कुप्र ११७)।  
 थप्पिअ वि [स्थापित] रक्ता हुआ, न्यस्त (पिग)।  
 थव्भ अक [स्तम्भ] अहंकार करना। थव्भइ (सूअ १, १३, १०)।  
 थव्भर पुं [दे] अयोध्या नगरी के समीप का एक ब्रह्म-द्वय या भील (ती ११)।  
 थमिअ वि [दे] विस्मृत (दे ५, २५)।  
 थय सक [स्थगय] आच्छादन करना, आवृत करना, ढकना। थयइ, थयसु (पि ३०६; गा ६०५)। भवि. थयइस्सं (गा ३१४)। हेक्क. थयइडं (गा ३६४)।  
 थय वि [स्तुत्] व्याप्त, भरपूर (से १, १)।  
 थय पुं [स्तव] स्तुति, स्तवन, गुण-कीर्तन (अजि ३६; सं ४४)।  
 थयण न [स्तवन] ऊपर देखो; 'थुइययण-वंदणनमंसाणणि एगट्टिआणि एमाई' (आव २)।

थर पुं [दे] वही की तर, वही के ऊपर की मलाई (दे ५, २४)।

थरथर } ग्रक [दे] थरथरना, कांपना।  
थरथर } थरथरइ, थरथरइ, थरथरइ (सद्वि  
थरथर } ६६, पि २०७; सुर ७, ६; गा  
१६५)। वक्र. थरथरंत, थरथ-  
राअंत, थरथराअमाण, थरथरंत (श्रीघ  
४७०; पि ५५८; नाट—मालती ५५; पउम  
३१; ४४)।

थरहरिअ वि [दे] कम्पित (दे ५, २७; भवि;  
सुर १, ७; सुपा २१; जय १०)।

थरु पुं [दे. त्सरु] खड्ग-मुष्टि, तलवार की मूठ (दे ५, २४)।

थरुगिण पुं [थरुकिण] १ देश-विशेष। २ पुंत्री. उस देश का निवासी। स्त्री. गिणिआ (इक)।

थल न [स्थल] १ भूमि, जगह, सूखी जमीन (कुमा; उप ६८६ टी)। २ ग्रस लेते समय खुले हुए मुँह की फांक, खुले हुए मुँह की खाली जगह (वव ७)। इल्ल वि [वत्] स्थल-युक्त (गडड)। कुकुडियंड न [कुकु-  
ट्यण्ड] कवल-प्रक्षेप के लिए खुला हुआ मुख (वव ७)। चार पुं [चार] जमीन में चलना (आचा)। नलिणी स्त्री [नलिनी] जमीन में होनेवाला कमल का गाछ (कुमा)। थ वि [ज] जमीन में उत्पन्न होनेवाला (पराण १; पउम १२, ३७)। थर वि [चर] १ जमीन पर चलनेवाला। २ जमीन पर चलनेवाला पंचेन्द्रिय तिर्यंच प्राणी (जीव ३; जी २०; औप)। स्त्री. री (जीव ३)।

थलय पुं [दे] मंडप, तृणादि-निर्मित गृह (दे ५, २५)।

थलहिगा स्त्री [दे] मृतक-स्मारक, शव को थलहिगा ) गाड़कर उस पर किया जाता एक प्रकार का चतुतरा (स ७५६; ७५७)।

थली स्त्री [स्थली] जल-शून्य भू-भाग (कुमा; पात्र)। थोडय पुं [थोटक] पशु-विशेष (वव ७)।

थली स्त्री [स्थली] ऊँची जमीन (उत्त ३०, १७; सुल ३०, १७)।

थलिया स्त्री [दे. स्थालिका] थलिया, छोटा थाल, भोजन करने का वस्तु (पउम २०, १६६)।

थय सक [स्तु] स्तुति करना। वक्र. थवंत (नाट)।

थय देखो थय = स्तव (हे २, ४६; सुपा ४४६)।

थय पुं [दे] पशु, जानवर (दे ५, २४)।

थयइ पुं [स्थपति] वर्धकि, बढई (दे २, २२)।

थयइय वि [स्तवकित] स्तवकवाला, गुच्छ-युक्त (गाया १, १; औप)।

थयइल्ल वि [दे] जाँघ फैलाकर बैठा हुआ (दे ५, २६)।

थयक पुं [दे] योक, समूह, जत्या; लठनइ कुलवहुसुरए थयकयो सयलसोकवाणं (वजा ६६)।

थयण देखो थयण (आव २)।

थयणिआ स्त्री [स्थापनिका] न्यास, जमा रखी हुई वस्तु; 'कन्नगोभूमालियवणियवव-  
हारकूडतक्खिज्जं' (सुपा २७५)।

थयय पुं [स्तवक] फूल आदि का गुच्छ (दे २, १०३; पात्र)।

थविआ स्त्री [दे] प्रसेविका, वीणा के अन्त में लगाया जाता छोटा काष्ठ-विशेष (दे २, २५)।

थविय वि [स्थापित] न्यस्त, निहित (भवि)।

थविय वि [स्तुत] जिसकी स्तुति की गई हो वह, श्वापित (सुपा ३४३)।

थविर वि [स्थविर] वृद्ध, बूढ़ा (धमंवि १३४)।

थवी [दे] देवी थविआ (दे २, २५)।

थस } वि [दे] विस्तीर्ण (दे ५, २५)।  
थसल }

थह पुं [दे] निलय, आश्रय, स्थान (दे ५, २५)।

था देखो ठा। थाइ (भवि)। भवि. वाहिइ (पि ५२४)। वक्र. थंत (पउम १४, १३४; भवि)। संक्र. थाऊण (हे ४, १६)।

थाइ वि [स्थायिन्] रहनेवाला। णी स्त्री [नी] वर्ष-वर्ष पर प्रसव करनेवाली घोड़ी (राज)।

थागत न [दे] जहाज के भीतर बसा हुआ पानी (सिरि ४, २५)।

थाण देखो ठाण (हे ४, १६; विसे १=५६; उप पृ ३३२)।

थाणय न [स्थानक] बालवाल, कियारी (दे ५, २७)।

थाणय न [दे] १ चौकी, पहरा; 'न्याणया अडवि ति निविट्ठाई थाणयाई', 'तयो बहुवो-  
नियाए रयणीए थाणयनिविट्ठा तुरियतुरिय-  
मागया सवरपुरिसा' (स ५३७; ५४६)। २ पुं. चौकीदार, चौकी करनेवाला आदमी, पहरेदार; 'पहायसमए य विसंसरिणुं थाण-  
एणुं' (स ५३७)।

थाणिज्ज वि [दे] गौरवित, सम्मानित (दे ४, ५)।

थाणीय वि [स्थानीय] स्वानापत्र (स ६६७)।

थाणु पुं [स्थाणु] १ महादेव, शिव (हे २, ७; कुमा; पात्र)। २ ठूठा वृक्ष (गा २३२; पात्र); 'दवदड्ढयाणुसरिसं' (कुप्र १०२)। ३ सीला। ४ स्तम्भ (राज)।

थाणेसर न [स्थानेश्वर] समुद्र के किनारे पर का एक शहर (उप ७२८ टी; स १४८)।

थाम वि [दे] विस्तीर्ण (दे ५, २५)।

थाम न [स्थामन्] १ बल, वीर्य, पराक्रम (हे ४, २६७; ठा ३, १)। २ वि. बल-युक्त (निद्र ११)। व वि [वत्] बलवान (उत्त २)।

थाम पुंन [स्थामन्] १ बल। २ प्राण; था (? वा) मो वा परिहायइ गुणणु (? गुण-  
णणु) प्पेहाणु अअसत्तो (पिड ६६४)।

थाम न [दे. स्थान] स्थान, जगह (संति ४७; स ४६; ७४३); 'सेवालियभूमितले फिल्लुसमाणा य थामथामम्मि' (सुर २, १०५)।

थार पुं [दे] वन, मेघ (दे ५, २७)।

थारुणय वि [थारुकिण] देश-विशेष में उत्पन्न। स्त्री. णिया (औप)। देखो थरुगिण।

थाल पुंन [स्थाल] बड़ी थलिया, भोजन करने का पात्र (दे ६, १२; अंत ५; उप पृ २५७)।

थालइ वि [स्थालकिन्] १ थालवाला। २ पुं. वानप्रस्थ का एक भेद (औप)।

थाला स्त्री [दे] धारा (पड)।

थाली ली [स्याली] पाक-पात्र, हांडी, बटलोही (ठा ३, १; सुपा ४८७)। °पाग वि [°पाक] हांडी में पकाया हुआ (ठा ३, १)।

थाव सक [स्थापय्] १ स्थिर करना। २ रखना। थावए (उत्त २, ३२)।

थावचा ली [स्थापत्या] द्वारका-निवासी एक गृहस्व ली (गाया १, ५)। °पुत्त पुं [°पुत्र] स्थापत्या का पुत्र, एक जैन मुनि (गाया १, ५; अंत)।

थावण न [स्थापन] न्यास, आधान (स २१३)।

थावय पुं. [स्थापक] समयं हेतु, स्वपक्ष-साधक हेतु (ठा ४, ३—पत्र २५४)।

थावर वि [स्थावर] १ स्थिर रहनेवाला। २ पुं. एकेन्द्रिय प्राणी, केवल स्पर्शेन्द्रियवाला—पृथिवी, पानी और वनस्पति आदि का जीव (ठा ३, २; जी २)। ३ एक विशेष-नाम, एक नौकर का नाम (उप २६७ टी)। °काय पुं [°काय] एकेन्द्रिय जीव (ठा २, १)। °णाम, °नाम न [°नामन्] कर्म-विशेष, स्थावरत्व-प्राप्ति का कारण-भूत कर्म (पंच ३; सम ६७)।

थासग [दे] कुदाल (आत्र० टिप्पण—पत्र ५६; १)।

थासग पुं [स्थासक] १ दर्पण, आदर्श, थासय } शोशा (विपा १, २—पत्र २४)। २ दर्पण के आकार का पात्र-विशेष (श्रौप; अनु. गाया १, १ टी)। ३ अश्व का आभरण-विशेष (राज)।

थाह पुं [दे] १ स्थान, जगह। २ वि. अस्तास, गंभीर जल-वाला। ३ विस्तीर्ण। ४ दीर्घ, लम्बा (दे ५, ३०)।

थाह पुं [स्थाघ] थाह, तला, गहराई का अन्त, सीमा (पात्र; विते १३३२; गाया १, ६; १४; से ८, ४०)।

थाहिअ पुं [दे] आलाप, स्वर विशेष (सुपा १६)।

थिअ वि [स्थित] रहा हुआ (स २७०; विते १०३५; भवि)।

थिइ देखो ठिइ (से २, १८; गउड)।

थिदिणी ली [दे] कन्द-विशेष; विदिणिचण्ड-रासेण (सम्मत १४१)।

थिप अक [तृप्] तृप्त होना, संतुष्ट होना। थिपइ (प्राप्र)। भवि. थिपिहिति (प्राप्र ८, २२ टी)। संक्र. थिपिअ (प्राप्र ८, २२ टी)।

थिगगल न [दे] १ भित्ति-द्वार, भीत में किया हुआ दरवाजा (दस ५, १, १५)। २ फटे-फुटे वस्त्र में किया जाता संवान, वस्त्र आदि के लंबित भाग में लगाई जाती जोड़ (पएण १७; विते १४३६ टी)।

थिगगल पुंन [दे] १ छिद्र। २ गिरने के बाद दुबस्त (ठीक) किया हुआ गृह-भाग (आचा २, १, ६, २)।

थिज्ज देखो थेज्ज = स्तेर्य (संभव ४६)।

थिण्ण वि [स्थान] कठिन, जमा हुआ (हे १, ७४; २, ६६; से २, ३०)। देखो थीण।

थिण्ण वि [दे] १ स्नेह-रहित दयावाला। २ अभिमानी, गर्व-युक्त (दे ४, ३०)।

थिन्न वि [दे] गर्वित, अभिमानी (पात्र)।

थिप्प देखो थिप। थिप्पइ (हे ४, १३८)।

थिप्प अक [वि+गल्] गल जाना। थिप्पइ (हे ४, १७५)।

थियुक् पुं [स्तिवुक] कन्द-विशेष (सुख ३६, ६६)।

थिम सक [स्तिम्] आद्र करना, गोला करना। हेठ्. थिमिउं (राज)।

थिमिअ वि [दे. स्तिमित] स्थिर, निश्चल (दे ५, २७; से २, ४३; ८, ६१; गाया १, १; विपा १, १; पएह १, ४; २, ५; श्रौप; सुख १; सूत्र १, ३, ४)। २ मन्वर, धोमा (पात्र)।

थिमिअ पुं [स्तिमित] राजा अन्वकवृष्णि के एक पुत्र का नाम (अंत ३)।

थिम्म सक [स्तिम्] १ आद्र करना। अक. आद्र होना। थिम्मइ (प्राक १२०)।

थिर वि [स्थिर] १ निश्चल, निष्कम्प (विपा १, १; सम ११६; गाया १, ८)। २ निष्पन्न, संपन्न (दस ७, ३५)। °णाम, °नाम न [°नामन्] कर्म-विशेष, जिसके उदय से दन्त, हड्डी आदि अवयवों की स्थिरता होती है (कम्म १, ४६; सम ६७)। °वलिआ. ली [°वलिआ] जन्तु-विशेष, सर्प की एक जाति (जीव २)।

थिरणाम वि [दे] चल-चित्त, चंचल-मनस्क (दे ५, २७)।

थिरण्णेस वि [दे] अस्थिर, चंचल (पइ)। थिरसीस वि [दे] १ निर्भोक, निडर। २ निर्भर। ३ जिसने सिर पर कवच बांधा हो वह (दे ५, ३१)।

थिरिम पुं ली [स्थैर्य] स्थिरता (सण)।

थिरीकण न [स्थिरीकरण] स्थिर करना, दृढ़ करना, जमाना (आ ६; रयण ६६)।

थिह्ण वि [दे] गुप्त (चउपन्न० विवुवानंद)।

थिल्लि ली [दे] यान-विशेष—१ दो घोड़े की बगची। २ दो खच्चर आदि से बाल्य यान (सूत्र २, २; ६२; गाया १, १ टी—पत्र ४३; श्रौप)।

थिविथिव अक [थिवथिवाय्] 'थिव-थिव' आवाज करना। वक्र. थिविथिवंत (विपा १, ७)।

थियुग पुं [स्तिवुक] जल-विन्दु (विते थियुय } ७०४; ७०५; सम १४६)। °संक्रम पुं [°संक्रम] कर्म-प्रकृतियों का आपस में संक्रमण-विशेष (पंचा ५)।

थीहु पुं ली [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६६)।

थीहु पुं [स्तिमु] वनस्पति-विशेष (राज)।

थी ली [ली] ली. महिला, नारी, औरत (हे २, १३०; कुमा; प्रासू ६५)।

थीण देखो थिण्ण (हे १, ७४; दे १, ६१; कुमा; पात्र)। °गिद्धि ली [°गुद्धि] निकट निद्रा-विशेष (ठा ६; विते २३४; उत्त ३३, ५)। °द्धि ली [°द्धि] अथम निद्रा-विशेष (सम १५)। °द्धिय वि [°द्धिक] स्थानद्धि निद्रा वाला (विते २३५)।

थु अ. तिरस्कार-सूचक अव्यय (प्रति ८१)।

थुअ वि [स्तुत] जिसकी स्तुति की गई हो वह, प्रशंसित (दे ८, २७; वएण ५०; अजि १८)।

थुअ देखो थुण। थुअइ (प्राक ६७)।

थुइ ली [स्तुति] स्तव, गुण-कीर्तन (कुमा; चैत्य १; सुर १०, १०३)।

थुइवाय पुं [स्तुतिवाद्] प्रशंसा-वचन (चैद्य ७४४)।

थुक् अक् [थून् + कृ] १ थूकना । २ सक. तिरस्कार करना, थुतकारना, अनादर के साथ निकालना । थुक्केइ (वजा ४६) । संकृ. थुक्किऊण (सुपा ३४६) ।

थुक्क न [थूत्कृत] थूक, कफ, खखार (दे ४, ४१) ।

थुक्कार पुं [थूत्कार] तिरस्कार (राय) ।

थुक्कार सक [थूत्कारय्] तिरस्कार करना । कवक. थुक्कारिज्जमाण (पि ५६३) ।

थुक्किअ वि [दे] उन्नत, ऊंचा (दे ५, २८) ।

थुक्किअ वि [थूत्कृत] थूका हुआ (दे ५, २८; सुपा ३४६) ।

थुड न [दे. स्थुड] वृक्ष का स्कन्ध; 'चीरोड करेऊण वद्धा ताण थुडेमु' (सुपा ५८४, ३६६) ।

थुडंकिअय न [दे] रोप-युक्त वचन (पात्र) ।

थुडुंकिअ न [दे] १ अल्प-कुपित मुँह का संकोच, थोड़ा गुस्सा होने से होता मुँह का संकोच । २ मौत, चुपकी (दे ५, ३१) ।

थुडुहीर न [दे] चामर (दे ५, २८) ।

थुण सक [स्तु] स्तुति करना, गुण-वर्णन करना । थुणइ (हे ४, २४१) । कर्म. थुव्वइ, थुणजइ (हे ४, २४२) । कवक. थुणंत (भवि) । कवक. थुव्वंत, थुव्वमाण (सुपा ८८; सुर ४, ६६; स ७०१) । संकृ. थोऊण (काल) । हेक. थोनुं (मुणि १०८७५) । क. थुव्व, थोअव्व (भवि; चैत्व ३५; से ७१०) ।

थुणण न [स्तवन] गुण-कीर्तन, स्तुति (सुपा ३७) ।

थुणिर वि [स्तोत्] स्तुति करनेवाला (काल) ।

थुणण वि [दे] हप्त, अभिमानी (दे ५, २७) ।

थुत्त न [स्तोत्र] स्तुति, स्तुति-पाठ (भवि) ।

थुत्थुक्कारिय वि [थुत्थुक्कारित] थुतकारा हुआ, तिरस्कृत, अपमानित (भवि) ।

थुत्थुक्कार पुं [थुत्थुक्कार] तिरस्कार (प्रयो ८१) ।

थुरुणुहणय न [दे] शय्या, विछौना (दे ५, २८) ।

थुलम पुं [दे] पट-कुटी, तंबू, बल्ल-गृह, कपड़-कोट, लेमा (दे ५, २८) ।

थुल्ल वि [दे] परिवर्तित, बदला हुआ (दे ५, २७) ।

थुल्ल वि [स्थूल] मोटा (हे २, ६६; प्रामा) ।

थुल्ल वि [स्थूल] मोटा, तगड़ा । लो. ०. ली (पिंड ४२६) ।

थुव देखो थुण । थुवइ (प्राकृ ६७) ।

थुवअ वि [स्तावक] स्तुति करनेवाला (हे १, ७५) ।

थुवण न [स्तवन] स्तुति, स्तव (कुप्र ३५१) ।

थुव्व } देखो थुण ।  
थुव्वंत }

थू अ. निन्दा-सूचक अव्यय; 'थू निल्लजो लोओ' (हे २, २००; कुमा) ।

थूण पुं [दे] अश्व, घोड़ा (दे ५, २६) ।

थूण देखो तेण = स्तेन (हे २, १४७) ।

थूणा ली [स्थूणा] खम्भा, खूँटी (पड; पण १५) ।

थूणाग पुं [स्थूणाक] सन्निवेश-विशेष, ग्राम-विशेष (आवम) ।

थूथू अ [दे] घृणा-सूचक अव्यय (चंड) ।

थूभ पुं [स्तूप] शूहा, दीला, दूह, स्मृति-स्तम्भ (विसे ६६८; सुपा २०६; कुप्र १६५; आचा २, १; २) ।

थूभिया } ली [स्तूपिका] १ छोटा स्तूप  
थूभियागा } (श्रीघ ४३६; श्रीप) । २ छोटा शिखर (सम १३७) ।

थूरी ली [दे] तन्तुवाय का एक उपकरण (दे ५, २८) ।

थूल देखो थुल्ल (पात्र; परम १४, ११३; उवा) । भद्र पुं [भद्र] एक सुप्रसिद्ध जैन महर्षि (हे १, २५५; पडि) ।

थूलवोण पुं [दे] सूकर, बराह (दे ५, २६) ।

थूव } देखो थूभ (दे ७, ४०; सुर १, थूह } ५८) ।

थूह पुं [दे] १ प्रासाद का शिखर (दे ५, ३२; पात्र) । २ चातक पक्षी । ३ बल्मीक, दोमक (दे ५, ३२) ।

थेअ वि [स्थेय] १ रहने योग्य । २ जो रह सकता हो । ३ पुं. फैसला करनेवाला, न्याया-धीश (हे ४, २६७) ।

थेग पुं [दे] कन्द-विशेष (श्रा २०; जी ६) ।

थेज्ज न [स्थैर्य] स्थिरता (विसे १४) ।

थेज्ज देखो थेअ (वव ३) ।

थेण पुं [स्तेन] चोर, तस्कर (हे १, १४७) ।

थेणिल्लिअ वि [दे] १ हत, छोना हुआ । २

भीत, डरा हुआ (दे ५, ३२) ।

थेप्प देखो थिप्प । थेप्पइ (पि २०७; संक्षि ३४) ।

थेर वि [स्वविर] १ वृद्ध, बूढ़ा (हे १, १६६) ।

२, ८६; भग ६, ३३) । २ पुं. जैन साधु (श्रीघ १७; कप्प) । कप्प पुं [कल्प] १

जैन मुनियों का आचार-विशेष, गच्छ में रहने-वाले जैन मुनियों का अनुष्ठान । २ आचार-विशेष का प्रतिपादक ग्रन्थ (ठा ३, ४; श्रीघ ६७०) । कप्पिय पुं [कल्पिक] आचार-

विशेष का आश्रय करनेवाला, गच्छ में रहने-वाला जैन मुनि (पव ७०) । भूमि ली

[भूमि] स्वविर का पद (ठा ३, २) ।

वलि वि [वलि] १ जैन मुनियों का समूह । २ क्रम से जैन मुनि-गण के चरित्र का प्रतिपादक ग्रंथ-विशेष (एदि; कप्प) ।

थेर पुं [दे. स्वविर] ब्रह्मा, विवाता (दे ५, २६; पात्र) ।

थेरासण न [दे. स्वविरासन] पद्म, कमल (दे ५, २६) ।

थेरिअ न [स्थैर्य] स्थिरता (कुमा) ।

थेरिया } ली [स्थविरा] १ वृद्धा, बुढ़िया  
थेरी } (पात्र; श्रीघ २१ टी) । २ जैन साध्वी (कप्प) ।

थेरोसण न [दे. स्वविरासन] अम्बुज, कमल, पद्म (पड) ।

थेव पुं [दे] विन्दु (दे ५, २६; पात्र; पड) ।

थेव देखो थोव (हे २, १२५; पात्र; सुर १, १८१) । कालिय वि [कालिक] अल्प

काल तक रहनेवाला (सुपा ३७५) ।

थेवरिअ न [दे] जन्म-समय में वजाया जाता वाद्य (दे ५, २६) ।

थोअ देखो थोव (हे २, १२५; गा ४६; गडड; संक्षि १) ।

थोअ पुं [दे] १ रजक, घोवी । २ मूलक, मूला, कन्द-विशेष (दे ५, ३२) ।

थोअव्व } देखो थुण ।  
थोऊण }

थोक देखो थोक्क (प्राकृ ३८) ।

थोक्क } देखो थोव (दे २, १२५; जो १) ।  
थोग }

थोडेरुय देखो घाडेरुय (उप ७२८ टी) ।

थोणा देखो थूणा (हे १, १२५) ।

थोत्त न [स्तोत्र] स्तुति, स्तव (हे २, ४५; सुपा २६६) ।

थोत्तु देखो थुण ।

थोभ } पुं [स्तोभ, °क] 'ब', 'व' आदि  
थोभय } निरर्थक अव्यय का प्रयोग; 'उय-

वडकारा हति य अकारणा थोभया हुति' (वृह  
१; विते ६६६ टी) ।

थोर देखो थुल (हे १, २५५; २, ६६; पउम  
२, १६; से १०, ४२) ।

थोर वि [दे] क्रम से विस्तीर्ण अथ च गोल  
(दे ५, ३०; वज्रा ३६) ।

थोल पुं [दे] वल का एक देश (दे ५, ३०) ।

थोव } वि [स्तोक] १ अल्प, थोडा (हे  
थोवाग } २, १२५; उव; था २७; ओष  
२५६; विते ३०३०) । २ पुं. समय का एक  
परिमाण (ठा २, ३; भग) ।

थोह न [दे] वल, पराक्रम (दे ५, ३०) ।

थोहर पुं ली [दे] वनस्पति-विशेष, थूहर का  
पेड़, सेहूड़ (सुपा २०३) । ली. °री (उप  
१०३१ टी; जी १०; वमं ३) ।

॥ इअ सिरिपाइअसदमहणवमि थयाराइसदसकलणो

चउव्वीसइमो तरंगो समत्तो ॥

## द

द पुं [दे] दन्त स्थानीय व्यञ्जन-वर्ण विशेष  
(प्राण; प्राणा) ।

दअच्छर पुं [दे] ग्राम-स्वामी, गांव का  
अधिपति (दे ५, ३६) ।

दअरी ली [दे] सुरा, मदिरा, दाह (दे ५,  
३४) ।

दइ ली [दति] मशक, चर्म-निर्मित जल-पात्र  
(श्रीघ ३८) ।

दइअ वि [दे] रक्षित (दे ५, ३५) ।

दइअ पुं ली [दतिक्रा] मशक, चर्म-निर्मित  
जल-पात्र, चमड़े का बना हुआ वह थैला  
जिसमें पानी भरकर लाते हैं; 'दइएण  
वत्थिणा वा' (पिड ४२) । ली. °आ (अणु  
१५२; पिडमा १४) ।

दइअ वि [दयित] १ प्रिय, प्रेम-पात्र;  
'जाओ वरकामिणीदइओ' (सुर १, १८३) ।

२ अभीष्ट, वाञ्छित, 'अम्हाण मणोदइयं  
दंसणमवि दुल्लहं मन्ने' (सुर ३, २३८) ।

३ पुं. पति, स्वामी, भर्ता (पात्र; कुमा) ।

°यम वि [°तम] १ अत्यन्त प्रिय । २ पुं.  
पति, भर्ता (पउम ७७, ६२) ।

दइथा ली [दयिता] ली. प्रिया, पत्नी  
(कुमा; महा; सुर ४, १२६) ।

दइच्च पुं [दैत्य] दानव, असुर (हे १, १५१;  
कुमा; पात्र) । °शुरु पुं [°गुरु] शुक्र,  
शुक्राचार्य (पात्र) ।

दइच्च न [दैत्य] वीनता, गरीवपन, गरीबी  
(हे १, १५१) ।

दइव पुं न [दैव] देव, भाग्य, अदृष्ट, प्रारब्ध,  
पूर्व-कृतकर्म (हे १, १५३; कुमा; महा;  
पउम २८, ६०); 'अहवा कुविओ दइवो  
पुरिसं कि हणइ लउडेण' (सुर ८, ३४) ।  
°ज, °ण्णु पुं [°इ] ज्योतिषी, ज्योतिः-  
शास्त्र का विद्वान् (हे २, ८३; पड) । देखो  
देव = दैव ।

दइवय न [दैवत] देव, देवता (पएह २; १;  
हे १, १५१; कुमा) ।

दइविग वि [दैविक] देव-संबन्धी, दिव्य,  
उत्तम (स ५०६) ।

दइव्य देखो दइव (हे १, १५३; २, ६६;  
कुमा; पउम ६३, ४) ।

दउत्ति (शौ) अ [द्राग्] शीघ्र, जल्दी  
(प्राक ६५) ।

दउदर } न [दकोदर] रोग-विशेष,  
दओदर } जलोदर, पानी से पेट का फूलना  
(राया १, १३; विपा १, १) ।

दओभास पुं [दकावभास] लवण-समुद्र  
में स्थित वेलंघर-नागराज का एक आवास-  
पर्वत (इक) ।

दंठा देखो दाढा (नाट—मालती ५६) ।

दंठि वि [दंठिन्] बड़े दाँतपाला, हिसक  
जन्तु (नाट—वेणी २४) ।

दंड सक [दण्डय्] सजा करना, निग्रह  
करना । कवक, दंडिजंत (प्रासू ६६) ।

दंड पुं [दण्ड] १ जीव-हिंसा, प्राण-नाश  
(सम १; एण्ण १, १; ठा १) । २ अपराधी  
को अपराध के अनुसार शारीरिक या आर्थिक  
दण्ड, सजा, निग्रह, दमन (ठा ३, ३; प्रासू  
६३; हे १, १२७) । ३ लाठी, यष्टि (उप  
५३० टी; प्रासू ७४) । ४ दुःख-जनक,  
परिताप-जनक (आचा) । ५ मन, वचन और  
शरीर का अशुभ व्यापार (उत्त १६; दं  
४६) । ६ छन्द-विशेष (पिग) । ७ एक जैन  
उपासक का नाम (संया ६१) । ८ पुं. न.  
परिमाण-विशेष, १६२ अंगुल का एक नाप  
(इक) । ९ आज्ञा (ठा ५, ३) । १० पुं. न.  
सैन्य, लश्कर, फौज (पएह १; ४; ठा ५, ३) ।  
°अल पुं [°कल] छन्द-विशेष (पिग) । जुजम्भ  
न [°युद्ध] यष्टि-युद्ध (आचा) । °णायग पुं

[नायक] १ दण्ड-दाता, अपराधविचार-कर्ता । २ सेनापति, सेनानी, प्रतिनियत सैन्य का नायक (पएह १, ४; श्रौष; कप्प; णाया १, १) । ३ णीइ व्ही [नीति] नीति-विशेष, अनुशासन (ठा ९) । ४ पह पुं [पथ] मार्ग-विशेष, सीधा मार्ग (सूत्र १, १३) । ५ पासि पुं [पाशिन, पाशिन] १ दण्ड दाता । २ कोतवाल (राज; था २७) । ६ पुंछणय न [प्रोच्छन्नक] दण्डाकार भाहू (जं ५) । ७ भी वि [भी] दण्ड से डरने-वाला, दण्ड-भीरु (आचा) । ८ लत्तिय वि [लत्त] दण्ड लेनेवाला (वव १) । ९ वइ पुं [पति] सेनानी, सेनापति (सुपा ३२३) । १० वासिग, वासिय पुं [दाण्डपाशिक] कोतवाल (कुप्र १५५; स २६५; उप १०३१ टी) । ११ वीरिय पुं [वीर्य] राजा भरत के वंश का एक राजा, जिसको आदर्श-गृह में केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था (ठा ८) । १२ रास पुं [रास] एक प्रकार का नाच (कप्प) । १३ इय वि [यत्] दण्ड की तरह लम्बा (कस; श्रौष) । १४ यइय वि [यतिक] पैर को दण्ड की तरह लम्बा फैलानेवाला (श्रौष; कस; ठा ५, १) । १५ रक्खिग पुं [रक्षिक] दण्डकारी प्रतीहार (निचू ९) । १६ रण्य न [रण्य] दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जंगल (पउम ४१, १; ७६, ५) । १७ सणिय वि [सनिक] दण्ड की तरह पैर फैला कर बैठनेवाला (कस) । देखो दंडग, दंडय ।

दंड पुं [दण्ड] १ दण्ड-नायक, सेनापति (वव १) । २ उवाल, उफान; 'चसिणोदगं तिदडुक्कलियं फासुयजलंति जइ कप्प' (पव १३६, पिंड १८; विचार २५७) ।

दंडग } पुं [दण्डक] १ कण-कुण्डल नगर  
दंडय } का एक राजा (पउम १, १६) ।  
२ दण्डाकार वाक्य-पद्धति, ग्रन्थांश-विशेष (राज) । ३ भवनपति आदि चौबीस दण्डक, पद-विशेष (दं १) । ४ न. दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जंगल (पउम ३१; २५) । ५ गिरि पुं [गिरि] पर्वत-विशेष (पउम ४२, १४) । देखो दंड (उप ८६१; वृह १; सूत्र २, २; पउम ४०, १३) ।

दंडण न [दण्डन] दण्ड-करण, शिक्षा (सूत्र २, २, ८२; ८३) ।

दंडपासिग पुं [दाण्डपाशिक] कोतवाल (मोह १२७) ।

दंडलइअ वि [दण्डलातिक] दण्ड लेनेवाला, अपराधी (वव १) ।

दंडावण न [दण्डन] सजा कराना, निग्रह कराना (था १४) ।

दंडाविअ वि [दण्डित] जिसको दण्ड दिलाया गया हो वह (श्रौष ५६७ टी) ।

दंडि वि [दण्डिन्] १ दण्ड-युक्त । २ पुं. दण्डधारी प्रतीहार, दरवान (कुमा; जं ३) ।

दंडि देखो दंडी (कुप्र ४४) ।

दंडिअ पुं [दण्डिक] १ सामन्त राजा (पव २६८) । २ राज कुलानुगत पुरुष (पव ६१) । ३ दण्डपाशिक, कोतवाल (धर्मसं ५६६) ।

दंडिअ वि [दण्डित] जिसको सजा दी गई हो वह, कैदी (सुपा ४६२) ।

दंडिअ वि [दण्डिक] १ दण्डवाला । २ पुं. राजा, नृप (वव ४) । ३ दण्ड-दाता, अपराध-विचार-कर्ता (वव १) ।

दंडिआ व्ही [दे] लेख पर लगाई जाती राज-मुद्रा, ठप्पा, मोहर (वृह १) ।

दंडिकिअ वि [दे] अपमानित, 'दंडिकिओ समाणो तमवहृदिण नीणेइ' (उप ६४८ टी) ।

दंडिणी व्ही [दे.दण्डिनी] रानी, राज-पत्नी (पिंड ५००) ।

दंडिम वि [दण्डिम] १ दण्ड से निवृत्त । २ न. सजा करके बसूल किया हुआ द्रव्य (णाया १, १—पत्र ३७) ।

दंडी व्ही [दे] १ सूत्र-कनक । २ साँघा हुआ बल्ल-युग्म (दे ५, ३३) । ३ साँघा हुआ जीर्ण वस्त्र (णाया १, १६—पत्र १६६; पएह १, ३—पत्र ५३) ।

दंत वि [ददत्] दान कर्ता, दाता (पिंड ५६४) ।

दंत पुं [दान्त] दो उपवास, वेला (संवोध ५८) ।

दंत वि [दान्त] दो उपवास (संवोध ५८) ।

दंत पुं [दे] पर्वत का एक देश (दे ५, ३३) ।

दंत वि [दान्त] १ जिसका दमन किया गया हो वह, वश में किया हुआ; 'दंतेण चित्तेण

चरंति धीरा' (प्रासू १६५) । २ जितेन्द्रिय (णाया १, १४; वस १०) ।

दंत पुं [दन्त] दाँत, दशन (कुमा; कप्प) ।

कुंडी व्ही [कुंडी] दंष्ट्रा, दाढ़ (तंदु) । च्छअ पुं [च्छद] श्रोष्ठ, श्रोष्ठ, होठ (पात्र) ।

धावण न [धावन] १ दाँत साफ करना, दतवन करना । २ दाँत साफ करने का काष्ठ, दतवन (पएह २, ४; निचू ३) । ३ पक्खालण न [प्रक्षालन] वही पूर्वोक्त अर्थ (सूत्र १, ४, २) । ४ पाय न [पात्र] दाँत का बना हुआ पात्र (आचा २, ६, १) । ५ पुर न [पुर] नगर-विशेष (वव ?) । ६ प्होयण न [प्रधावन] देखो धावण (वस ३) । ७ माल पुं [माल] वृक्ष-विशेष (जं २) । ८ वक्क पुं [वक्क] दन्तपुर नगर का एक राजा (वव ?) । ९ वलहिया व्ही [वलभिका] उद्यान-विशेष (स ७०) । १० वाणिज्ज न [वाणिज्य] हाथी-दाँत वगैरह दाँत का व्यापार (धर्म २) । ११ र पुं [कार] दाँत का काम करनेवाला शिल्पी (पएण १) ।

दंतकार पुं [दन्तकार] दाँत बनानेवाला शिल्पी (अणु १४६) ।

दंतकुंडी व्ही [दन्तकुण्डी] दाँद, दंष्ट्रा (तंदु ४१) ।

दंतवक्क पुं [दान्तवाक्य] चक्रवर्ती राजा (सूत्र १, ६, २२) ।

दंतवण न [दे. दन्तपवन] १ दन्त-शुद्धि । २ दतवन, दाँत साफ करने का काष्ठ (दे २, १३; ठा ६—पत्र ४६०; उवा; पव ४) ।

दंतवण पुं न [दे. दन्तपवन] दतवन (वस ३, ६) ।

दंतसोहण न [दन्तशोधन] दतवन (उत्त १६, २७) ।

दंताल पुं व्ही [दे] शस्त्र-विशेष, घास काटने का हथियार (सुपा ५२६) । व्ही. ली (कम्म १, ३६) ।

दंति पुं [दन्तिन्] १ हस्ती, हाथी (पात्र) । २ पर्वत-विशेष (पउम १५, ६) ।

दंतिअ पुं [दे] शशक, खरगोश, खरहा (दे ५, ३४) ।

दंतिदिअ वि [दान्तेन्द्रिय] जितेन्द्रिय-इन्द्रिय-निग्रही (श्रौष ४६ भा) ।

दंतिक न [दे] चावल का आटा (बृह १) ।  
 दंतिका न [दे] मांस (धर्मसं ६६१) ।  
 दंतिया स्त्री [दन्तिका] एक वृक्ष-विशेष, बड़ी  
 सतावर (परण १—पत्र ३२) ।  
 दंती स्त्री [दन्ती] स्वनाम-ख्यात वृक्ष (परण  
 १—पत्र ३६) ।  
 दंतुक्खलिय पुं [दन्तोल्लखलिक] तापस-  
 विशेष, जो दाँतों से ही ब्रीहि या घान बगैरह  
 को निस्तुप कर खाते है (निर १, ३) ।  
 दंतुर वि [दन्तुर] उन्नत दाँतवाला, जिसके  
 दाँत उमड़-खाबड़ हो । २ ऊँचा-नीचा स्थान;  
 विपम स्थान (दे २, ७७) । ३ आगे आया  
 हुआ, आगे निकल आया हुआ (कप्पु) ।  
 दंतुरिय वि [दन्तुरित] ऊपर देखो, 'वित्त-  
 पात्तायपतिदंतुरियं' (उप १०३? टी; सुपा  
 २००) ।  
 दंद पुं [दन्द] १ व्याकरण-प्रसिद्ध उभयपद-  
 प्रवान समास (अणु) । २ न. परस्पर-विरुद्ध  
 शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि युग्म । ३ कलह,  
 क्लेश । ४ युद्ध, संग्राम (सुपा १४७; कुमा) ।  
 दंपइ पुं.ब. [दम्पति] स्त्री-पुरुष युगल—जोड़ा,  
 पति-पत्नी; 'ते दंपइउ तह तह धम्ममि  
 समुज्जमा निच्चं' (सिरि २४८) ।  
 दंभ पुं [दम्भ] १ माया, कपट (हे १,  
 १२७) । २ छन्द-विशेष (पिंग) । ३ ठगई,  
 वचन (पत्र २) ।  
 दंभग वि [दम्भक] दम्भी, पाखंडी, ठग, धूर्त;  
 'दंभगो त्ति निवमच्चिओ' (सुख २, १७) ।  
 दंभोलि पुं [दम्भोलि] वज्र (कुप्र २७०) ।  
 दंस सक [दर्शय] दिखलाना, बतलाना ।  
 दंसइ (हे ४, ३२; महा) । वक्र.दंसंत, दंसित,  
 दंसअंत (भग; सुपा ६२; अमि १८४) ।  
 कवक. दंसिजंत (सुर २, १६६) । संक.  
 दंसिअ (नाट) । क. दंसियव्य (सुपा  
 ४५४) ।  
 दंस सक [दंश] काटना, दाँत से काटना ।  
 दंसइ (नाट—साहित्य ७३) । दंसंतु (आचा) ।  
 वक्र. दंसमाण (आचा) ।  
 दंस पुं [दंश] १ डाँस, बड़ा मच्छड़ (भग;  
 आचा) । २ दाँत-दाँत, सपें या अन्य किसी  
 विपैले कीड़े से काटा हुआ धाव (हे १,  
 २६० टि) ।

दंस पुं [दर्श] सम्यक्त्व, तत्त्व-श्रद्धा (आवम) ।  
 दंसग वि [दर्शक] दिखलानेवाला (स ४८१) ।  
 दंसण पुं [दर्शन] १ अवलोकन, निरीक्षण  
 (पुफ्फ १२४; स्वप्न २६) । २ चक्षु, नेत्र,  
 आँख (से १, १७) । ३ सम्यक्त्व, तत्त्व-  
 श्रद्धा (ठा १; ५, ३) । ४ सामान्य ज्ञान;  
 'जं सामन्नागहणं दंसणमेथं' (सम्म ५५) ।  
 ५ मत, धर्म । ६ शास्त्र-विशेष (ठा ७; न;  
 पंचा १२) । 'मोह न [मोह] तत्त्व-श्रद्धा  
 का प्रतिबन्धक कर्म-विशेष (कम्म १, १४) ।  
 'मोहणिज्ज न [मोहनीय] कर्म-विशेष  
 (ठा २, ४; भा) । 'ावरण न [ावरण]  
 कर्म-विशेष, सानान्य-ज्ञान का आवरक कर्म  
 (ठा ६) । 'ावरणिज्ज न [ावरणीय]  
 पूर्वोक्त ही अर्थ (सम १५) । देखो दरिसण ।  
 दंसण न [दर्शन] दाँत से काटना (से १,  
 १७) ।  
 दंसणि वि [दर्शनिच] १ किसी धर्म का  
 अनुयायी (सुपा ४६६) । २ दार्शनिक; दर्शन-  
 शास्त्र का जानकार (कुप्र २६; कुमा २१) ।  
 ३ तत्व-श्रद्धालु (अणु) ।  
 दंसणिआ स्त्री [दर्शनिका] दर्शन, अवलोकन;  
 'चंदसूरदंसणिया' (ओप; णाया १, १) ।  
 दंसणिज्ज वि [दर्शनीय] देखने योग्य,  
 दंसणाअ } दर्शन-योग्य (सुप्र २, ७; अमि  
 ६८; महा) ।  
 दंसाव सक [दर्शय] दिखलाना । दंसावेइ  
 (प्राक ७१) ।  
 दंसावण न [दर्शन] दिखाना (उप २११ टी) ।  
 दंसाविअ वि [दर्शित] दिखलाया हुआ  
 (सुपा ३८६) ।  
 दंसि वि [दर्शिन्] देखनेवाला (आचा; कुप्र  
 ४१; दं २३) ।  
 दंसिअ वि [दर्शित] दिखलाया हुआ (पात्र) ।  
 दंसिअ  
 दंसित  
 दंसिजंत  
 दंसियव्य  
 देखो दंस = दर्शय ।  
 दक वि [दृष्ट] जो दाँत से काटा गया हो वह  
 (पड) ।  
 दक्ख सक [दृश] देखना, अवलोकन करना ।  
 दक्खामि, दक्खमो (अमि ११६; विक्र

२७) । प्रयो. दक्खवइ (पि ५५४) ।  
 कर्म. दीसइ (उप) । कवक. दिस्समाण,  
 दीसंत, दीसमाण (आव ५; गा ७३;  
 नाट—चैत ७१) । संक. दक्खु, दट्टु,  
 दट्टुआण, दट्टुं, दट्टुंग, दट्टुणं;  
 दिस्स, दिस्सं, दिस्सा (कप्प; पड; कुमा;  
 महा; पि ५८५; सुप्र १, ३, २, १; पि  
 ३३४) । हेक. दट्टुं (कुमा) । क. दट्टव्व,  
 दिट्टव्व (महा; उत्तर १०७) ।  
 दक्ख सक [दर्शय] दिखलाना, 'सोवि हु  
 दक्खइ बहुकोजयमंततताई (सुपा २३२) ।  
 दक्ख वि [दर्श] १ निपुण, चतुर, होशियार  
 (कप्प; सुपा २८६; आ २८) । २ पुं. भूता-  
 नन्द नामक इन्द्र के पदाति-सैन्य का अविपाति  
 देव (ठा ५, १; इक) । ३ भगवान् मुनिपुत्र-  
 स्वामी का एक पौत्र (पउम २१, २७) ।  
 दक्खं देखो दक्खा (पउम ५३, ७६; कुमा) ।  
 दक्खज्ज पुं [दे] गृध्र, गीघ, पक्षि-विशेष  
 (दे ५, ३४) ।  
 दक्खण न [दर्शन] १ अवलोकन, निरीक्षण ।  
 २ वि. देखनेवाला, निरीक्षक (कुमा) ।  
 दक्खव सक [दर्शय] दिखलाना, बतलाना ।  
 दक्खवइ (हे ४, ३२) ।  
 दक्खविअ वि [दर्शित] दिखलाया हुआ  
 (पात्र; कुमा) ।  
 दक्खा स्त्री [द्राक्षा] १ बल्ली-विशेष. दाखं  
 या अंगूर का पेड़ । २ फल-विशेष, दाख, अंगूर  
 (कप्प; सुपा २६७; ५३६) ।  
 दक्खायणी स्त्री [दाक्षायणी] गौरी, शिव-  
 पत्नी (पात्र) ।  
 दक्खिण वि [दक्षिण] १ दक्षिण दिशा में  
 स्थिति (सुर ३, १८; गउड) । २ निपुण,  
 चतुर (प्रामा) । ३ हितकर, अनुकूल । ४  
 अपसव्य, वामेतर, दाहिना (कुमा; औप) ।  
 'पच्चिमा स्त्री [पच्चिमा] दक्षिण और  
 पश्चिम के बीच की दिशा, नैऋत कोण  
 (आवम) । 'पुव्वा स्त्री [पूर्वा] अग्नि-कोण  
 (चंद १) । देखो दाहिण ।  
 दक्खिणत्त वि [दाक्षिणात्य] दक्षिण दिशा  
 में उत्पन्न (राज) ।  
 दक्खिणा स्त्री [दक्षिणा] १ दक्षिण दिशा  
 (जो १) । २ दक्षिण देश (कप्पु) । ३ धर्म-



कर्म का पारितोषिक, दान, भेंट (कप्पु; सूत्र २, ५)। °कंखि वि [°काङ्क्षिण] दक्षिणा का अभिलाषी (पउम ३०, ६३)। °यण न [°यन] १ सूर्य का दक्षिण दिशा में गमन। २ कर्म की संक्रान्ति से घन की संक्रान्ति तक के छः मास का काल (जो १)। °वध, °वह पुं [°पथ] दक्षिण देश (कप्पु; १४२ टी)।

दक्खिणापुब्बा देखो दक्खिण-पुब्बा (पव १०६)।

दक्खिणिल्ल वि [दाक्षिणात्य] दक्षिण दिशा में उत्पन्न या स्थित (सम १००; पउम ६, १५६)।

दक्खिणेय वि [दाक्षिणेय] जिसको दक्षिणा दी जाती हो वह (विसे ३२७१)।

दक्खिण्ण } न [दाक्षिण्य] १ मुलाहजा,  
दक्खिन्न } मुखवतः दक्षिणरणेय वि एतो  
सुह्य सुहावेसि अम्ह हिअग्गई (गा ८५; स्वप्न ६८)। २ उदारता, श्रौदार्य। ३ सरलता, मार्दव (सुर १, ६५; २, ६२; प्रासू ८)। ४ अनुकूलता (दंस २)।

दक्खिय वि [दर्शित] दिखलाया हुआ (भवि)।  
दक्खु देखो दक्ख = दृश्।

दक्खु देखो दक्ख = दक्ष (सूत्र १, २, ३)।  
दक्खु वि [पर्य, द्रष्टृ] १ देखनेवाला। २ पुं. सर्वज्ञ, जिन-देव (सूत्र १, २, ३)।

दक्खु वि [दृष्ट] १ विलोकित। २ पुं. सर्वज्ञ, जिन-देव (सूत्र १, २, ३)।

दग न [दक] १ पानी, जल (सं ५१; दं ३४; कप्पु)। २ पुं. ग्रह-विशेष, ग्रहाविधायक देव-विशेष (ठा २, ३)। ३ लवण-समुद्र में स्थित एक आवास पर्वत (सम ६८)। °गग्ग पुं [°गर्भ] अन्न, वादल (ठा ४, ४)। °तुंड पुं [°तुण्ड] पक्षि-विशेष (पएह १, १)। °पच्चवन्न पुं [°पच्चवर्ण] ज्योतिष्क देव-विशेष, एक ग्रह का नाम (ठा २, ३)। °पासाय पुं [°प्रासाद] स्फटिक रत्न का बना हुआ महल (जं १)। °पिप्पली वी [°पिप्पली] वनस्पति-विशेष (पएण १)। °भास पुं [°भास] बेलग्वर नागराज का एक आवास-पर्वत (सम ७३)। °मंचग पुं

[°मञ्चक] स्फटिक रत्न का मञ्च (जं १)। °मंडव पुं [°मण्डप] १ मण्डप-विशेष, जिसमें पानी टपकता हो (पएह २, ५)। २ स्फटिक रत्न का बनाया हुआ मण्डप (जं १)। °मट्टिया, °मट्टी वी [°मृत्तिका] १ पानीवाली मिट्टी (बृह ४; पडि)। २ कला-विशेष (जं २)। °रक्खस पुं [°राक्षस] जल-मानुष के आकार का जंतु-विशेष (सूत्र १, ७)। °रय पुंन [°रजस्] उदक-विन्दु, जल-कणिका (कप्पु)। °वण्ण पुं [°वर्ण] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (सुज्ज २०)। °वारग, °वारय पुं [°वारक] पानी का छोटा घड़ा (राय; राया १, २)। °सीम पुं [°सीमन्] बेलग्वर नागराज का एक आवास-पर्वत (राज)।

दग न [दक] स्फटिक रत्न (राय ७५)। °सोयरिअ वि [°शौकरिक] सख्य मत का अनुयायी (पिंड ३१४)।

दच्चा देखो दा।

दच्छ देखो दक्ख = दृश्। भवि. दच्छं, दच्छसि, दच्छिहिसि (प्राप्र; उत्त २२, ४४; गा ८१६)।

दच्छ देखो दक्ख = दक्ष; 'रोगसमदच्छं ओसहं' (उप ७२८ टी; पएह २, ३—पत्र ४५; हे २, १७)।

दच्छ वि [दे] तीक्ष्ण, तेज (दे ५, ३३)।

दद्धंता } देखो दह = दह।  
दद्धमाणा }

दट्ट वि [दट्ट] जिसको दाँत से काटा गया हो वह (पड; महा)।

दट्ट वि [दट्ट] देखा हुआ, विलोकित (राज)।

दट्टंतिय वि [दाट्टान्तिक] जिसपर दट्टान्त दिया गया हो वह अर्थ (उप पृ १४३)।

दट्टव्व } देखो दक्ख = दृश्।  
दट्टु }

दट्टु वि [द्रष्टृ] देखनेवाला, प्रेक्षक, दर्शक (विसे १८६५)।

दट्टुआण }

दट्टुं }

दट्टुण }

दट्टुणं }

देखो दक्ख = दृश्।

दडवड पुं [दे] १ घाटी, दर्रा, अवस्कन्द (दे ५, ३५; हे ४, ४२२; भवि)। २ शीघ्र, जल्दी (चंड)।

दडि वी [दे] वाद्य-विशेष (भवि)।

दड्ड वि [दग्ध] जला हुआ (हे १; २१७; भाग)।

दड्डालि वी [दे] दव-माणं (पड)।

दड वि [दड] १ मजवूत, बलवान्, पोढ़ (श्रौप; से ८, ६०)। २ निश्चल, स्थिर, निष्कम्प (सूत्र १, ४, १; आ २८)। ३ समर्थ, क्षम (सूत्र १, ३, १)। ४ अति-निविड, प्रगाढ़ (राय)। ५ कठोर, कठिन (पंचा ४)। ६ क्लिबि. अतिशय, अत्यन्त (पंचा १; ७)। °केउ पुं [°केतु] ऐश्वर्य क्षेत्र के एक भावी जिन-देव का नाम (पव ७)। °णेमि देखो °नेमि (राज)। °धणु [°धनुप] १ ऐश्वर्य क्षेत्र के एक भावी कुलकर का नाम (सम १५३)। २ भरत-क्षेत्र के एक भावी कुलकर का नाम (राज)।

°धम्म-वि [°धर्मन्] १ जो धर्म में निश्चल हो (बृह १)। २ देव-विशेष का नाम (आवम)। °धिईय वि [°धृत्तिक] अतिशय धैर्यवाला (पउम २६, २२)। °नेमि पुं [°नेमि] राजा समुद्रविजय का एक पुत्र, जिसने भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा ली थी और सिद्धाचल पर्वत पर मुक्ति पाई थी (अंत १४)। °पइण वि [°प्रतिज्ञ] १ स्थिर-प्रतिज्ञ, सत्य-प्रतिज्ञ। २ पुं. सूर्याभ देव का आगामी जन्म में होनेवाला नाम (राय)।

°प्पहारि वि [°प्रहारिन्] १ मजवूत प्रहार करनेवाला। २ पुं. जैनमुनि-विशेष, जो पहले चोरों का नायक था और पीछे से दीक्षा लेकर मुक्त हुआ था (राया १, १८; महा)। °भूमि वी [°भूमि] एक गाँव का नाम (आवम)। °मूढ वि [°मूढ] नितान्त मूर्ख (दे १, ४)। °रह पुं [°रथ] १ एक कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०)। २ भगवान् श्री शितलनाथजी के पिता का नाम (सम १५१)। °रहा वी [°रथा] लोकपाल आदि देवों के अग्र-महिषियों की बाह्य परिपद् (ठा ३, १—पत्र १२७)। °उ पुं [°युप्] भगवान् महावीर के समय

में तीर्थकर-नामकर्म उपाजन करने वाला एक मनुष्य (ठा ६—पत्र ४५५)। २ भरत-क्षेत्र के एक भावी कुलकर पुरुष का नाम (सम १५४)।

दृढगालि स्त्री [दे] वल्ल-विशेष, घोया हुआ सदश बल (पत्र ८४; दसनि १, ४६ टी) देखो दाढगालि।

दृढिअ वि [दृढिन] दृढ़ किया हुआ (कुमा)।

दृणु पुं [दनुज] दैत्य, दानव (हे १, दणुअ २६७; कुमा; पड)। ईंद्र, एंद्र पुं [इंद्र] १ दानवों का अधिपति (गजड; से १, २)। २ रावण, लंकापति (पउम ६६, १०)। ३ चंद्र पुं [पति] देखो ईंद्र (पउम १, १; ७२, ६० सुपा ४५)।

दत्त वि [दत्त] १ दिया हुआ, दान किया हुआ, वित्तोण (हे १, ४६)। २ न्यस्त, स्थापित (जं १)। ३ पुं. स्व-नाम-ख्यात एक श्रेष्ठि-मुत्र (उप ५६२; ७६८ टी)। ४ भरत-वर्ष के एक भावी कुलकर पुरुष (सम १५३)। ५ चतुर्थ बलदेव के पूर्व-जन्म का नाम (सम १५३)। ६ भरत-क्षेत्र में उत्पन्न एक अर्ध-चक्रवर्ती राजा, एक वासुदेव (सम ६३)। ७ भरत-क्षेत्र में अतीत उत्सर्पणी काल में उत्पन्न एक जिन-देव (पत्र ७)। ८ एक जैनमुनि (आक)। ९ नृप-विशेष (विपा १, ७)। १० एक जैन आचार्य (कुप्र ६)। ११ न. दान, उत्सर्ग (उत्त १)।

दत्त न [दात्र] दांती, घास काटने का हँसिया (दे १, १४)।

दत्ति स्त्री [दत्ति] एक बार में जितना दान दिया जाय वह, अधिच्छिन्न रूप से जितनी मिना दी जाय वह (ठा ५, १; पंचा १८)।

दत्तिय पुंजो [दत्तिका] ऊपर देखो, 'संको दत्तियस्स' (वव ६)।

दत्तिय पुं [दत्तिक] वायु-पूर्णं चर्म (राज)।

दत्तिया स्त्री [दात्रिका] १ छोटी दांती, घास काटने का शस्त्र-विशेष (राज)। २ देनेवाली स्त्री, दान करनेवाली स्त्री (चार २)।

दत्थर पुं [दे] हस्त-शाटक, कर-शाटक (दे ५, ३४)। ददंत देखो दा।

ददर पुं [दे: ददर] कुलुप आदि के मुँह पर बाँधा जाता कपड़ा (पिड ३४७; ३५६; राय ६८; १००)।

ददर वि [दे: ददर] १ घना, प्रचुर, अत्यन्त; 'गोसीससरसरतचंदणददरदिएणपंचंगुलितला' (सम १३७)। २ पुं. चपेटा, हल्ल-तल का आघात (सम १३७; औप; णाया १, ८)। ३ आघात, प्रहार; 'पायददरएणं कंपयंतेव मेइणितलं' (णाया १, १)। ४ वचनाटोप (पएह १, ३—पत्र ४४)। ५ सोपान-वीथी, सीढ़ी (सम १३७)। ६ वाद्य-विशेष (जं २)।

ददरिगा देखो ददरिया (राय ४६)।

ददरिया स्त्री [दे: ददरिका] १ प्रहार, आघात (णाया १, १६)। २ वाद्य-विशेष (राय)।

ददु पुं [ददु] दाद, सुद्र कुष्ठ-रोग (भग ७, ६)।

ददुदुर पुं [ददुदुर] प्रहार, आघात (धर्मवि ८५)।

ददुदुर पुं [ददुदुर] १ भेक, मेढ़क, बेंग (सुर १०, १८७; प्रासू ४५)। २ चमड़े से अवनद्ध मुँहवाला कलश (पएह २, ५)। ३ देव-विशेष (णाया १, १३)। ४ राहु, ग्रह-विशेष (सुज १६)। ५ पर्वत-विशेष (णाया १, १६)। ६ वाद्य-विशेष (दे ७, ६१; गजड)। ७ न. ददुर देव का सिंहासन (णाया १, १३)। ८ वडिसय न [वितंसक] देव-विशेष, सौधर्म देवलोक का एक विमान (णाया १, १३)।

ददुदुरी स्त्री [ददुदुरी] स्त्री-मेढ़क, भेकी (णाया १, १३)।

ददुदुल वि [ददुदुल] दाद-रोगवाला (सिरि ११६)।

दधि देखो दहि (सम ७७; पि ३७६)।

ददु देखो दडु (सुर २, ११२; पि २२२)।

दप पुं [दर्प] १ अहंकार, अभिमान, गर्व (प्रासू १३२)। २ बल, पराक्रम, जोर (से ४, ३)। ३ घृष्टता, दिठाई (भग १२, ५)। ४ अरुचि से काम का आसेवन (निचू १)।

दप्पण पुं [दर्पण] १ काच, शीशा, आदर्श (णाया १, १; प्रासू १६१)। २ वि. दर्प-जनक (पएह २, ४)।

दप्पणिल्ल वि [दर्पणीय] बल-जनक, पुष्टि-कारक (णाया १, १; पएण १७; औप; कप्प)।

दप्पि वि [दर्पिन] अभिमानी, गर्विष्ठ (कप्प)। दप्पिअ वि [दर्पिक] दर्प-जनित (उवर १३१)।

दप्पिअ वि [दर्पित] अभिमानी, गर्वित (सुर ७, २००; पएह १, ४)।

दप्पिदु वि [दर्पिट] अत्यन्त अहंकारी (सुपा २२)।

दप्पुल्ल वि [दर्पवत्] अहंकारवाला (हे २, १५६; पड)।

दव्व पुं [दर्भ] तृण-विशेष, डाभ, काश, कुशा (हे १, २१७)। १ पुष्प पुं [पुष्प] साँप की एक जाति (पएह १, १—पत्र ८)।

दव्वभायण न [दाभायन, दाभ्यायन] दव्विभायण चित्रा-नक्षत्र का गोत्र (इक; सुज १०)।

दव्विभय न [दार्भिक] गोत्र-विशेष (सुज १०, १६ टी)।

दम सक [दमय] निग्रह करना, दमन करना, रोकना। दमेइ (स २८६)। कर्म. दम्मइ (उव)। कवक. दम्मंत (उव)। संक. दमिऊण (कुप्र ३६३)। क. दमियच्च, दम्म, दमेयच्च (काल; आचा २, ४, २; उव)।

दम पुं [दम] १ दमन, निग्रह। २ इन्द्रिय-निग्रह, बाह्य वृत्ति का निरोध (पएह २, ४; एण्दि)। ३ वोस पुं [घोप] चेदि देश के एक राजा का नाम (णाया १, १६)। ४ दंत पुं [दन्त] १ हस्तिशीपक नगर के एक राजा का नाम (उप ६४८ टी)। २ एक जैन मुनि (विसे २७६६)। ३ धर पुं [धर] एक जैन मुनि का नाम (पउम २०, १६३)।

दमग देखो दमय (णाया १, १६; सुपा ३८५; वव ३; निचू १५; वृह १; उव)।

दमग वि [दमक] दमन करनेवाला (निचू ६)।

दमण देखो दमणक (राय ३४; १२१)।

दमण न [दमन] १ निग्रह, दान्ति। २ वश में करना, कावू में करना; 'पंचिदियदमणपरा' (आप ४०)। ३ उपताप, पीड़ा (पएह १,

३) ४ पशुओं को दी जाती शिला (पउम १०३, ७१)।  
 दमणक } पुंन [दमनक] १ दौना, सुगन्धित  
 दमणग } पत्रवाली वनस्पति-विशेष (पएह  
 दमणय) २, ५; पएण १; गउड)। छन्द-  
 विशेष (पिग)। ३ गन्ध-द्रव्य-विशेष (राज)।  
 दमदमा अक [दमदमाय्] आडम्बर  
 करना। दमदमाइ, दमदमाग्रइ (हे ३, १३८)।  
 दमय वि [दे. द्रमक] दरिद्र, रंक, गरीब  
 (दे ५, ३४; विसे २८४५)।  
 दमयंती स्त्री [दमयन्ती] राजा नल की पत्नी  
 का नाम (पडि; कुप्र ५४; ५६)।  
 दमि वि [दमिन्] जितेन्द्रिय (उत्त २२)।  
 दमिअ वि [दमित] निगृहीत, रोका हुआ  
 (गा ८२३; कुप्र ४८)।  
 दमिल पुं [दमिड] १ एक भारतीय देश।  
 २ पुंत्री, उसके निवासी मनुष्य, द्राविड़ (कुप्र  
 १७२; इक; औप)। स्त्री. °ली (गाया १,  
 १; इक; औप)।  
 दमेयव्य } देखो दम = दमय्।  
 दम्म }  
 दम्म पुं [द्रम्म] सोने का सिक्का, सोना-  
 मोहर (उप पृ ३८७; हे ४, ४२२)।  
 दम्मत् देखो दम = दमय्।  
 दय सक [दय्] १ रक्षण करना। २ कृपा  
 करना। ३ चाहना। ४ देना। दयइ (आचा)।  
 वक्र. दअंत, दअमाण। (से १२, ६४; ३,  
 १२; अग्नि १२)।  
 दय न [दि. दक] जल, पानी (दे ५, ३३;  
 वृह १)। °सीम पुं [°सीमन्] लवण-समुद्र  
 में स्थित एक आवास-पर्वत (सम ६८)।  
 दय न [दे] शोक, अफसोस, दिलगिरी (दे ५,  
 ३३)।  
 दय देखो दव = दव (से १, ५१; १२, ६५)।  
 °दय वि [°दय्] देनेवाला (कप्प; पडि)।  
 दया स्त्री [दया] कदवा, अनुकम्पा, कृपा  
 (दस ६, १)। °वर वि [°पर] दयालु  
 (पउम २६, ४०; उप पृ १६१)।  
 दयाइअ वि [दे] रक्षित (दे ५, ३५)।  
 दयालु वि [दयालु] दयावाला, कल्याण (हे १,  
 १७७; १८०; पउम १६, ३१; सुपा ३४०;  
 वा १६)।

दयावण } वि [दे] दीन, गरीब, रंक (दे  
 दयावन्न } ५, ३५; भवि; पउम ३३, ८६)।  
 दर सक [दृ] आदर करना। दरइ (पड्)।  
 दर पुंन [दर] भय, डर (कुमा)। २ अ-  
 ईपत, थोड़ा, अल्प (हे २, २१५)।  
 दर पुंन [दर] १ गुफा, कन्दरा। २ गतं,  
 गड्ढा, गड्ढा या गड्ढा, दरार, 'ते य दरा  
 मिदया ते य' (धर्मवि १४०)।  
 दर न [दे] अर्थ, आवा (दे ५, ३३; भवि;  
 हे २, २१५; वृह ३)।  
 दरंदर पुं [दे] उल्लास (दे ५, ३७)।  
 दरमत्ता स्त्री [दे] बलात्कार, जबरदस्ती  
 (दे ५, ३७)।  
 दरमल सक [मर्दय्] १ चूर्ण करना,  
 विदारना। २ आघात करना। दरमलइ  
 (भवि)। वक्र. दरमलंत (भवि)।  
 दरमलिय वि [मर्दित] आहत, चूर्णित  
 (भवि)।  
 दरवलिअ वि [दे] उपभुक्त (कुमा)।  
 दरवल्ल पुं [दि] ग्राम-स्वामी, गांव का मुखिया  
 (दे ५, ३६)। °णिहेल्लण न [दे] शून्य  
 गृह, खाली घर (दे ५, ३७)। °वल्लह पुं  
 [वल्लभ] १ दयित, प्रिय (दे ५, ३७)। २  
 कातर, डरपोक (पड्)। °विंदर वि [दे]  
 १ दीर्घ, लम्बा। २ विरल (दे ५, ५२)।  
 दरस (शौ) देखो दरिस। दरसेदि (प्राक  
 ६६)।  
 दरि न [दरी] कन्दरा, गुफा; 'दरीणि वा'  
 (आचा २, १०, २)।  
 दरिं देखो दरी। °अर पुं [°चर] किनर  
 (से ६, ४४)।  
 दरिअ वि [दृत्त] गर्विष्ठ, अभिमानी (हे १,  
 १४४; पाअ)।  
 दरिअ वि [दीर्ण] १ डरा हुआ, भीत (कुमा;  
 सुपा ६४५)। २ फाड़ा हुआ, विदारित  
 (अंत ७)।  
 दरिअ (अप) पुं [दरिद्र] छन्द-विशेष (पिग)।  
 दरिआ स्त्री [दरिका] कन्दरा, गुफा (नाट—  
 चिक्र ८४)।  
 दरिइ वि [दरिद्र] १ निर्धन, निःस्व, धन-  
 रहित। २ दीन, गरीब (पाअ; प्रासू २३;  
 कप्प)।

दरिहि } वि [दरिद्रिन्, °क] ऊपर देखो;  
 दरिहिय } 'अग्ने दरिहियो, कहें विवाहमंगलं  
 रत्नो य पूयं करेमो' (महा; सण; पि २५७)।  
 दरिहिय वि [दरिद्रित] दुःस्थित, जो धन-  
 रहित हुआ हो (महा; पि २५७)।  
 दरिदीह्य वि [दरिद्रोभूत] जो निर्धन हुआ  
 हो (ठा ३, १)।  
 दरिस सक [दर्शय्] दिखलाना, बतलाना।  
 दरिसइ, दरिसइ (हे ४, ३२; कुमा; महा)।  
 वक्र. दरिसंत (सुपा २४)। कृ. दरिसणिज्ज,  
 दरिसणीय (औप; पि १३५; सुर १०, ६)।  
 दरिसण देखो दंसण = दर्शन (हे २, १०५)।  
 °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (इक)।  
 °आवरणी स्त्री [°वरणी] विद्या-विशेष  
 (पउम ५६; ४०)।  
 दरिसणिज्ज न [दर्शनीय] १ आकृति, रूप।  
 २ भ्रवलोकन (तंदु ३६)।  
 दरिसणिज्ज } देखो दरिस। २ न. भेंट, उप-  
 दरिसणीय } हार; 'गहिञ्जण दरिसणीयं  
 संपत्तो राइणो मूलं' (सुर १०, ६)।  
 दरिसाव देखो दरिस। वक्र. दरिसावंत (उप  
 पृ १८८)।  
 दरिसाव पुं [दर्शन] दर्शन, साक्षात्कार;  
 'एसो य महप्पा कइवयधरेसु दरिसावं दाअण  
 पडिनियत्तइ' (महा); 'पईव इव दाउं खणेमं  
 दरिसावं पुणोपि अइंसणोहोइ' (सुपा ११५)।  
 दरिसाव पुं [दर्शन] दिखावा (वव १)।  
 दरिसावण न [दर्शन] १ दर्शन, साक्षात्कार  
 (आव १)। २ वि. दर्शन, दिखलानेवाला  
 (भवि)।  
 दरिसि वि [दर्शिन्] देखनेवाला (उवा; पि  
 १३५; स ७२७)।  
 दरिसिअ वि [दर्शित] दिखलाया हुआ  
 (कुमा; उव)।  
 दरी स्त्री [दरी] गुफा, कन्दरा (गाया १, १;  
 से ६, ४४; उप पृ २६८; स ४१३)।  
 दरुम्मिल्ल वि [दे] धन, निविड (दे ५, ३७)।  
 दल सक [दा] देना, दान करना, अर्पण  
 करना। दलइ (कप्प; कस); 'जं तस्स मोल्लं  
 तमहं दलामि' (उप २११ टी)। वक्र. दल-  
 माण, दलेमाण (कप्प; गाया १, १६—  
 पत्र २०४; ठा ४, २—पत्र २१६) संक्र.  
 दलित्ता (कप्प)।

दल अक [ दल ] १ विकसना । २ फटना; खरिडत होना, द्विधा होना; 'अहिंसअरकिरणणिजर्वडु' विअं दलइ कमलवणं (गा ४६५); 'कुडयं दलइ' (कुमा) । वक. दलंत (से १, ५८) ।

दल सक [ दलय ] चूणं करना, टुकड़े-टुकड़े करना, विदारना । वक. 'निम्मूलं दलमाणो सयलंतरसत्तुसिन्नवलं' (सुपा ८५) । कवक. दलिजंत (से ६, ६२) । संक. दलिऊण (कुमा) ।

दल न [ दल ] १ सैन्य, लश्कर, फौज (कुमा) । २ पत्र, पत्ता, पंखड़ी या पंखड़ी; 'तूहवल्लहस्स गोसम्मि आसि अहरो मिलाणकमलदलो' (हेला ५१, गा ९; १८०; २५७, ३६६; ५६२, ५६१; सुपा ६३८) । ३ घन, सम्पत्ति । ४ समूह, समुदाय, गरोह (सुपा ६३८) । ५ खण्ड, भाग, अंश (से ६, ६२) । दलण न [ दलन ] १ पीसना, चूणन (सुपा १४; ६१६) । २ वि. चूणं करनेवाला (सुपा २३४; ४६७; कुप्र १३२; ३८३) ।

दलमाण देखो दल = दा ।

दलमाण देखो दल = दलय् ।

दलमल देखो दरमल । वक. दलमलंत (भवि) । दलय देखो दल = दा । दलयइ (श्रीप) । भवि. दलइसंति (श्रीप) । वक. दलयमाण (शाया १, १—पत्र ३७, ठा ३, १—पत्र ११७) । संक. दलइत्ता (श्रीप) ।

दलय सक [ दापय ] दिलाना दलयइ (कप्प) ।

दलयट्ट देखो दरमल । दलवट्टइ (भवि) ।

दलवट्टिय देखो दलमलिय (भवि) ।

दलाव सक [ दापय ] दिलाना । दलावेइ (पि ५५२) । वक. दलावेमाण (ठा ४, २) ।

दलिअ वि [ दलित ] १ विकसित, खिला हुआ (से १२, १) । २ पीसा हुआ (पाअ); 'दलिअनपसालितं डुलघवलमि अंक्रामु राईसु' (गा ६६१) । ३ विदारित, खरिडत (दे १, १५६; सुर ४, १५२) ।

दलिअ न [ दलिक ] १ चीज, वस्तु, द्रव्य (श्रीघ ५५); 'जह जोगम्मि वि दलिए सव्वम्मि न कीरण पडिमा' (विसे १६३४) । २ परिडत (बृह० क० भा० उ० ४) ।

दलिअ वि [ दे ] १ निकृणित, जिसने टेढ़ी नजर की हो वह । २ न. उंगली (दे ५, ५२) । काष्ठ, लकड़ी (दे ५, ५२; पाअ) ।

दलिजंत देखो दल = दलय् ।

दलिइ देखो दरिइ (हे १, २५४; गा २३०) ।

दलिहा अक [ दरिद्रा ] दुर्गंत होना, दरिद्र होना । वलिहाइ (हे १, २५४) । भूका, वलिहाईय (संसि ३२) ।

दलिल वि [ दलयत् ] दल-युक्त, दलवाला (सण) ।

दलेमाण देखो दल = दा ।

दव सक [ द्रु ] १ गति करना । २ छोड़ना । दवए (विसे २८) ।

दव पुं [ दव ] १ जंगल का अग्नि, वन की आग (दे ५; ३३) । २ वन, जंगल । ३ गि पुं [ गि ] जंगल का अग्नि (हे १, १७७; प्राप्र) ।

दव पुं [ द्रव ] १ परिहास (दे ५, ३३) । २ पानी, जल (पंचव २) । ३ पनीली वस्तु, रसीली चीज (विसे १७०७) । ४ वेग; 'दव-दवचारी' (सम ३७) । ५ संयम, विरति (आचा) । ६ कर वि. [ कर ] परिहासकारक (भग ६; ३३) । ७ कारी, गारी स्त्री [ कारी ] एक प्रकार की दासी, जिसका काम परिहास-जनक बातें कर जो बहलाना होता है (भग ११, ११; शाया १, १ टी. पत्र ४३) ।

दवण न [ दवन ] यान, वाहन (सूअनि १०८) ।

दवणय देखो दमणय (भवि) ।

दवदव } अ [ द्रवद्रवम् ] शीघ्र, जल्दी;  
दवदवस्स } 'दवदवचारा पमत्तजणा' (संघोष १४; उत १७, ८); 'दवदवस्स न गच्छेजा' (दस ५, १, १४); 'जह वणदवो वणं दवद-वस्स जलियो खणेण निइहइ' (धर्मवि ८६) । दवदवा स्त्री [ द्रवद्रवा ] वेगवाली गति, 'नाऊण गयं खुहियं नयरजणो धाविओ दव-दवाए' (पउम ८, १७३) ।

दवर पुं [ दे ] १ तनु, डोरा, धागा (दे ५, ३५; आवम) । २ रज्जु, रस्ती (शाया १, ८) ।

दवरिया स्त्री [ दे ] छोटी रस्ती (विसे) ।

दवहुत्त न [ दे ] ग्रीष्म-मुल, ग्रीष्म काल का प्रारम्भ (दे ५, ३६) ।

दवाव सक [ दापय ] दिलाना । दवावेइ (महा) । वक. दवावेमाण (शाया १, १४) । संक. दवावेऊण (महा) । हेक. दवावेत्तए (कस) ।

दवावण न [ दापन ] दिलाना (निचू २) ।

दवाविअ वि [ दापित ] दिलाया हुआ (सुपा १३०; स १६३; महा; उप पृ ३८५; ७२८ टी) ।

दविअ पुंन [ द्रव्य ] १ अन्वयी वस्तु, जीव आदि मौलिक पदार्थ, मूल वस्तु (सम्म ६; विसे २०३१) । २ वस्तु, गृहाधार पदार्थ (श्रीघ ५, आचा; कप्प) । ३ वि. भव्य, मुक्ति के योग्य (सूअ १, २, १) । ४ भव्य, सुन्दर, शुद्ध (सूअ १, १६) । ५ राग-द्रव्य से विरहित, वीतराग (सूअ १, ८) । ६ पुंनोम पुं [ पुंनोम ] पदार्थ-विचार, वस्तु की भीमांसा (ठा १०) । देखो दव्य ।

दविअ वि [ द्रविक ] संयम वाला, संयम युक्त, संयमी (आचा) ।

दविअ वि [ द्रवित ] द्रव-युक्त, पनीली वस्तु (श्रीघ) ।

दविड देखो दविल (सुपा ५८०) ।

दविडी स्त्री [ द्राविडी ] लिपि-विशेष, तामिल भाषा (विसे ४६४ टी) ।

दविण न [ द्रविण ] घन, पैसा, संपत्ति (पाअ; कप्प) ।

दविय न [ द्रव्य ] १ घास का जंगल, वन में घास के लिए सरकार से अवरुद्ध भूमि (आचा २, ३, ३, १) । २ तुण आदि द्रव्य-समुदाय (सूअ २, २, ८) ।

दविल पुं [ द्रविड ] १ देश-विशेष, दक्षिण देश-विशेष, मद्रास प्रांत । पुंनो. द्रविड देश का निवासी मनुष्य, द्राविड (परह १, १—पत्र १४) ।

दव्य देखो दविअ = द्रव्य (सम्म १२; भग; विसे २८; अणु; उत २८) । ६ घन, पैसा, संपत्ति (पाअ; प्रासु १३१) । ७ भूत या भविष्य पदार्थ का कारण (विसे २८; पंचा ६) । ८ गौरव, अप्रधान । ९ बाह्य, अतथ्य (पंचा ४; ६) । १० द्रिय पुं [ द्रिय ] 'स्थित, स्थितिक' द्रव्य को ही प्रधान माननेवाला

पत्त, नय-विशेष; 'द्वन्द्वियन्त सव्वं सया अणुप्यमत्रिणहं' (सम्म ११; वित्ते ४५७)।  
 °लिंगि न [°लिङ्ग] बाह्य वेप (पंचा ४)।  
 °लिंगि वि [°लिङ्गिन्] भेषवारी साधु (गु १०)। °लेस्सा लो [°लेस्या] शरीर आदि पौद्गलिक वस्तु का रंग, रूप (भग)। °वेय पुं [°वेड] पुरुष आदि का बाह्य आकार (राज)। °ययिय पुं. [°यय्य] अग्रवान आचार्य, आचार्य के गुणों से रहित आचार्य (पंचा ६)।

दव्व न [द्वय] योग्यता, 'समयम्मि दव्व-सदो पायं जं जोगयाए ह्दो त्ति, सिह्वच-रित्तो' (पंचा ६, १०)।

दव्वहलिया लो [द्वयहलिका] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५)।  
 दव्वि° देखो दव्वी (पड्.)।

दव्विदिअ न [द्वयन्द्रिय] स्थूल इन्द्रिय (भग)।

दव्वी लो [द्वी] १ कछी, कलछी, चमची, डोई (पाय)। २ साँप की फन (दे ५, ३७)। °अर °कर पुं [°कर] साँप, सर्प (दे ५, ३७; परण १)।

दव्वी लो [द्वे] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३४)।

दस वि. व. [दशान्] दस, नौ और एक (हे १, १६२; ठा ३, १—पत्र ११६; सुपा २६७)। °उर न [°पुर] नगर-विशेष (वित्ते २३०३)। °कंठ पुं [°कण्ठ] रावण, एक लंका-पति (से १५, ६१)। °कंवर पुं [°कंवर] राजा रावण (गडड) °कालिय न [°कालिक] एक जैन आगम-ग्रंथ (दसनि १)। °ग न [°क] दश का समूह (दं ३८; नव १२)। °गुण वि [°गुण] दस गुना (ठा १०)। °गुणिअ वि [°गुणित] दस-गुना (भग; था १०)। °गोय पुं [°गोय] रावण (पठम ७३, ८)। °दस मिया लो [°दशमिका] जैन साधु का एक धार्मिक अनुष्ठान, प्रतिमा-विशेष (सम १००)। °दिवसिय वि [°दिवसिक] दस दिन का (साया १, १—पत्र ३७)। °द्व पुं [°धे] पाँच, ५ (सम ६०; साया १,

१)। °धणु पुं [°धणुप्] ऐरवत क्षेत्र के एक भावी कुलकर पुरुष (सम १५३)। °पएसिय वि [°प्रादेशिक] दस श्रवण-वाला (ठा १०)। °पुर देखो °उर (महा)। °पुव्वि वि [°पूर्विन्] दस पूर्व-ग्रन्थों का ग्रन्थात्ती (शोध १)। °वल पुं [°वल] भगवान् बुद्ध (पाय; हे १, २६२)। °म वि [°म] १ दसवाँ (राज)। २ चार दिनों का लगातार उपवास (आचा; साया १, १; सुर ४, ५५)। °मभत्तिय वि [°मभक्तिक] चार दिनों का लगातार उपवास करनेवाला (परह २, ३)। °मासिअ वि [°मापिक] दस मासे का तौलवाला, दस मासे का परिमाणवाला (कप्प)। °मी लो [°मी] १ दसवाँ। २ तिथि-विशेष (सम २६)। °मुद्दि-याणंतग न [°मुद्दिकानन्तक] हाथ की उंगलियों की दस अंगुठियाँ (शोध)। °मुह पुं [°मुख] रावण, राजस-पति (हे १, २६२; प्राय; हेका ३३४)। °मुहसुअ पुं [°मुखसुत] रावण का पुत्र, मेघनाद आदि (से १३, ६०)। °य देखो °ग (ठा १०)। °रत्त न [°रात्र] दस रात (त्रिपा १, ३)। °रह पुं [°रथ] १ रामचन्द्रजी के पिता का नाम (सम १५२; पठम २०, १८३)। २ अतीत उत्सर्पिणी-काल में उत्पन्न एक कुलकर पुरुष (ठा ६—पत्र ४४७)। °रहसुय पुं [°रथसुत] राजा दशरथ का पुत्र—राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न (पठम ५६, ८७)। °वअण पुं [°वदन] राजा रावण (से १०, ५)। °वल देखो °वल (प्राय)। °विह वि [°विध] दस प्रकार का (कुमा)। °वेआ-लिअ न [°वैकालिक] जैन आगम-ग्रन्थ-विशेष (दसनि १; रांदि)। °हा अ [°धा] दस प्रकार से (जी २४)। °गण पुं [°गण] राक्षसेश्वर रावण (से ३, ६३)। °हिया लो [°हिहा] पुत्र-जन्म के उलटव्य में किया जाता दस दिनों का एक उत्सव (कप्प)।

दसग वि [दशक] दस वर्षों की उम्र का (तंडु १७)।

दसण पुं [दशान्] १ दाँत, दन्त (भग; कुमा)। २ न. दंश, काटना (पव. ३८)। °च्छय पुं [°च्छद] होठ, अवर, ओठ (सुर १२, २३४)।

दसण पुं [दशार्ण] देश-विशेष (उप २११ टो; कुमा)। °कूड न [°कूट] शिवर-विशेष (आवम)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (ठा १०)। °भद् पुं [°भद्र] दशार्णपुर का एक विख्यात राजा, जो श्रद्धितीय ब्राह्मण से भगवान् महावीर को वन्दन करने गया था और जितने भगवान् महावीर के पास दोला ली थी (पडि)। °वइ पुं [°पति] दशार्ण देश का राजा (कुमा)।

दसतीण न [दे] वान्य-विशेष (परण १—पत्र ३४)।

दसन्न देखो दसण (सत्त ६७ टी)।

दसा लो [दशा] १ स्थिति, अवस्था (गो २२७; २८४; प्रासू ११०)। २ सौ वर्ष के प्राणी की दस-दस वर्ष की अवस्था (दसनि १)। ३ सूत या ऊन का छोटा और पतला धागा (शोध ७२५)। ४ व. जैन आगम-ग्रन्थ-विशेष (अणु)।

दसार पुं [दशार्ह] १ समुद्रविजय आदि दश यादव (सम १२६; हे २, ८५; अंत २; साया १, ४—पत्र ६६)। २ वासुदेव, श्रीकृष्ण (साया १, १६)। ३ बलदेव (आवम)। ४ वासुदेव की संतति (राज)। °णोड पुं [°नेट्] श्रीकृष्ण (उव)। °नाह पुं [°नाथ] श्रीकृष्ण (पाय)। °वइ पुं [°पति] श्रीकृष्ण (कुमा)।

दसिया देखो दसा (सुपा ६४१)।

दसु पुं [दे] शोक, दिलगीरी (दे ५, ३४)।

दसुत्तरसय न [दशोत्तरशत] १ एक सौ दस। २ वि. एक सौ दसवाँ, ११० वाँ (पठम ११०, ४५)।

दसुय पुं [दस्यु] लुटेरा, डाकू, चोर, तस्कर (उत्त १०, १६)।

दसेर पुं [दे] सूत्र-कनक (दे ५, ३३)।

दस्स देखो दंस = दशय्। क. दस्सणीअ (त्वप्न ६५)।

दस्सण देखो दंसण (ने २१)।

दस्सु पुं [दस्यु] चोर, तस्कर (था २७)।

दह सक [दह] जलना, भस्म करना। वहइ (महा)। कर्म. दहिबइ (हे ४, २५६), दहइ (आचा)। वहइ. दहंत (था २८)।

कवक. दृज्मंत, दृज्जमाण (नाट—मालती ३०; पि २२२) ।

दह पुं [द्रह] हृद, बड़ा जलाशय, नील, सरोवर (भगः उवाः णाया १, ४—पत्र ६६; सुपा १३७) । °कुल्लिया वी [°कुल्लिका] वल्ली-विशेष (पण १) । °वई, °वई वी [°वती] नदी-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०; जं ४) ।

दह देखो दस (हे १, २६२; दं १२; पि २६२; पउम ७८, २५; से १३, ६४; प्राप्र; से १४, १६; ३, ११; १०; ४; पउम ८, ४४; प्राप्र) ।

दहण न [दहन] १ दाह, भस्मोकरण । २ पुं. अग्नि, वहि (पणह १, १; उप पृ २२; सुपा ४७४; आ २८) ।

दहणी वी [दहनी] विद्या-विशेष (पउम ७ १३८) ।

दहवोही वी [दे] स्वाती, थलिया, धरिया (दे ५, ३६) ।

दहावण वि [दाहक] जलानेवाला (सण) ।

दहि न [दधि] दही, दूध का विकार (ठा ३ १; णाया १, १; प्राप्र) । °घण पुं [°घन] दधि-पिण्ड, अतिशय जमा हुआ दही (पण १७—पत्र ५२६) । °मुह पुं [°मुख] १ द्वीप-विशेष (पउम ५१, १) । २ एक नगर (पउम ५१, २) । ३ पर्वत-विशेष (राज) । °घण्ण, °घण्ण पुं [°घण्ण] १ एक राजा, नृप-विशेष (कुप्र ६६) । २ वृक्ष-विशेष (श्रीप; सम १५२; पण १—पत्र ३१) । °वासुया वी [°वासुका] वनस्पति-विशेष (जीव ३) । °वाहन पुं [°वाहन] नृप-विशेष (महा) । °सर पुं [°सर] खाद्य-द्रव्य-विशेष, मलाई, (दे ३, २६; ५, ३६) ।

दहि वि [दधि] १ दही, 'जुन्हादहीय महण्ण' (धर्मवि ५५); 'अयंतु दही' (सुप्र २, १, १६) । २ तैला, लगातार तीन दिन का उपवास (संवाच ५८) ।

दहिउप्फ न [दे] नवनीत, नैर्, मक्खन (दे ५, ३५) ।

दहिट्ट पुं [दे] वृक्ष-विशेष, कपिल, कैय या कैय का पेड़ (दे ५, ३५) ।

दहिण देखो दाहिण (नाट—वेणी ६७) ।

दहित्थर } पुं [दे] दधितर, दही पर की  
दहित्थार } मलाई, खाद्य-विशेष (दे ५, ३६) ।

दहिमुह पुं [दे] कपि, वानर (दे ५, ४४) ।

दहिय पुं [दे] पक्षि-विशेष, 'जं लावयति-रिदहियमोरं मारंति अहोस वि के वि घोर' (कुप्र ५२७) ।

दा सक [दा] देना, उत्सर्ग करना । दाइ, देइ (भवि; हे २, २०६; आचा; महा; कस) ।

भवि दाहं, दाहामि, दाहिमि (हे ३, १७०; आचा) । कर्म, दिज्ज (हे ४, ४३८) । वक, दित्त, देत्त, ददत्त, देयमाण (सुर १, २१२; गा २३; ४६४; हे ४, ३७६; वृह १; णाया १, १४—पत्र १८६) । कवक, दिज्जंत, दिज्जमाण, दीअमाण (गा १०१; सुर ३, ७६; १०, ५; सम ३६; सुपा ५०२; मा ३३) । संक, ददा, दाउं, दाऊण (विपा १, १; पि ५८७; कुमा; उव) । हेक, दाउं (उवा) । क, दायव्व, देय (सुर १, ११०; सुपा २३३; ४४४; ५३२) । हेक, देवं (अप) (हे ४, ४४१) ।

दा° देखो दग । °थालग न [°थालक] जल से गोला घाल (भग १५—पत्र ६८०) ।

कलस पुं [°कलश] पानी का छोटा घड़ा । °कुंभ [°कुम्भ] जल का घड़ा । °घरग पुं [°घरक] जल का पात्र-विशेष (भग १५—पत्र ६८०) ।

दा देखो ता = तावत् (से ३, १०) ।

दाअ देखो दाव = दशयं । दाइ (विसे ८४४) । कर्म, दाइज्ज (विसे ४६०) । कवक, दाइ-ज्जमाण (कप्प) ।

दाअ पुं [दे] प्रतिभू, गामिनदार, जमानत करनेवाला (दे ५, ३८) ।

दाअ पुं [दाय] दान, उत्सर्ग (णाय १, १—पत्र ३७) ।

दाइ वि [दायिन्] दाता, देनेवाला (उप पृ १६२) ।

दाइअ वि [दशित] दिखलाया हुआ (विसे १०१२) ।

दाइअ पुं [दायिक] १ पेटुक संपत्ति का हिस्सेदार (उप पृ ४७; महा) । २ गोत्रिक, समान-गोत्रीय (कप्प) ।

दाइज्जमाण देखो दाअ = दशयं ।

दाइज्जय न [देयक] पाणिग्रहण के समय वर-वधू को दिया जाता द्रव्य (सिरि ४६६) ।

दाउ वि [दावृ] दाता, देनेवाला (महा; सं १; सुपा १६१) ।

दाउं देखो दा = दा ।

दाओयरिय वि [दाओदरिक्] जलोदर रोग-वाला (विपा १, ७) ।

दाक्खव (अप) देखो दक्खव । दाक्खवड (प्राक ११६) ।

दाघ देखो दाह (हे १, २६४) ।

दाडिम न—[दाडिम] फल-विशेष, अनार (महा) ।

दाडिमी वी [दाडिमी] अनार का पेड़ (पि २४०) ।

दाढगालि देखो दढगालि (दसन १, ४६ टी) ।

दाढा वी [दंघ्रा] बड़ा दांत, दन्त-विशेष, चौमड़, चहू, दाड़ (हे २, १३०; गउड) ।

दाडि वि [दंष्ट्रिन्] १ दाढ़ावाला । २ पुं, हिंसक पशु (वेणी ४६) । सूअर, वराह; 'कि दाढीमयभीप्रो निययं गुहं केसरी रियइ' (पउम ७, १८) ।

दाडिआ वी [दे] दाढ़ी, मुख के नीचे का भाग, शम्भु, ठुड्डी के नीचे या ठुड्डी पर के बाल (दे २, १०१) ।

दाडिआलि } वी [दंष्ट्रिकावलि] १ दाढ़ा  
दाडिगालि } की पंक्ति । २ वल्ल-विशेष (वृह ३; जीत) ।

दाण पुंन [दान] १ दान, उत्सर्ग, त्याग; 'एह वंति दाणा' (पउम १४, ५४; कप्प; प्रासू ४८; ६७; १७२) । २ हाथी का मद (पाप्र; पड; गउड) । ३ जो दिया जाय वह (गउड) । °विरय पुं [°विरत] एक राजा (सुपा १००) । °साला वी [°शाला] सत्रागार (ती ८) ।

दाणंतराय न [दानान्तराय] कर्म-विशेष, जिसके उदय से दान देने की इच्छा नहीं होती है (राय) ।

दाणपारमिया वी [दावपारमिता] दान, उत्सर्ग; समपण; 'दितस्स हिरन्नादी अन्नासा देहमादियं चैव । अग्गहविणिवित्ती जा सेट्ठा सा दाणपारमिया' (धर्मसं ७३७) ।

दाणव पुं [दानव] दैत्य, अनुर, दनुज (दे १, १७७; अचु ४१; प्रासू ८६) ।  
 दाणविद्र पुं [दानवेन्द्र] असुरों का स्वामी (शाया १, ८; पउम ६२, ३६; प्रासू १०७) ।  
 दाणि ब्री [दे] शुल्क, चुंगी (सुपा ३६०; ५४८) ।  
 दाणि | अ [इदानीम्] इस समय, अभी  
 दाणि | प्रति ३६; स्वप्न २०; हे १, २६;  
 दाणी | ४, २७७; अग्नि ३७; स्वप्न ३३) ।  
 दाथ वि [द्वास्थ] १ द्वार पर स्थित । २ पुं. प्रतीहार, द्वारपाल, चपरासी (दे ६, ७२) ।  
 दादलिआ ब्री [दे] अंगुली, उंगली (दे ५, ३८) ।  
 दापण न [दापन] दिलाना, 'अनुद्वाराणं अंजलिकरणं तहंवासणदापणं' (सत्त २६ टी) ।  
 दाम न [दामन्] १ माला, लज् (पह १, ४; कुमा) । २ रज्जु, रस्ती (गा १७२; हे १, ३२) । ३ पुं. बेलन्वर नागराज का एक आवास-पर्वत (राज) । ० वंत वि [वत्] मालावाला (कुमा) ।  
 दामट्टि पुं [दामस्थि] सौधमं देवलोक के इन्द्र के वृषभ-सैन्य का अधिपति देव (इक) ।  
 दामड्डि पुं [दामट्टि] ऊपर देखो (ठा ५, १—पत्र ३०३) ।  
 दामण न [दामन] वन्यन, पशुओं का रस्ती से नियन्त्रण (पव ३८) ।  
 दामण ब्री [दामनी] पशु को बाँधने की डोरी—रस्ती, पगहा (वर्मवि १४४) । ब्री. ०णा (सुज १०, ८) ।  
 दामणी ब्री [दामनी] १ पशुओं को बाँधने की रस्ती (भग १६, ६) । २ भगवान् कुन्धुनाथ की मुख्य शिष्या (तित्व) । ३ ब्री और पुरुष का रज्जु के आकारवाला एक शुभ लक्षण (पह २, ४ टी—पत्र ८४; पह २, ४—पत्र ६६; ७६; जं २) ।  
 दामणा ब्री [दे] १. प्रसव, प्रसूति । २ नयन, आँख (दे ५, ५२) ।  
 दामिय वि [दामित] संयमित, नियन्त्रित (सण) ।  
 दामिली ब्री [दाविडी] द्रविड देश की लिपि में निबद्ध एक मन्त्र-विद्या (सूत्र २, २) ।

दामी ब्री [दामी] लिपि-विशेष (सम ३५) ।  
 दामोअर पुं [दामोअर] १ श्रीकृष्ण वामुदेव (ती ४) । २ अतीत उत्सर्पिणी काल में भरत-क्षेत्र में उत्पन्न तवर्वा जिनदेव (पव ७) ।  
 दायग वि [दायक] दाता, देनेवाला (उप ७२८ टी; महा; सुर २, ४४; सुपा ३७८) ।  
 दायण न [दान] देना, 'दायणे अ निकाए अ अनुद्वाराणेति आवरे' (सम २१); 'तवो-विहाणं तह दाणदाप (? य) णं' (सत्त २६) ।  
 दायणा ब्री [दापना] पृष्ट अर्थ को व्याख्या (विसे २६३२) ।  
 दायय देखो दायग; 'अजिअसंतिपायया हुंतु मे शिवसुहाण दायया' (अजि ३४) ।  
 दायव्य देखो दा = वा ।  
 दायद पुं [दायाद] पैतृक संपत्ति का भागी-दार, पुत्र, संपिंड कुटुम्बी (आचा) ।  
 दायार वि [दायार] याचक, प्रार्थी (कप्प) ।  
 दार सक [दारय] विदारना, तोड़ना, चूर्ण करना । वक. दारंत (कुमा) ।  
 दार पुं [दे] कटी-सूत्र, काँची (दे ५, ३८) ।  
 दार पुंन [दार] कलत्र, ब्री, महिला (सम ५०; स १३७; सुर ७, २०१; प्रासू ६५); 'द्वेण अय्पकालं गहिया वेसावि होइ परदार' (सुपा २८०) ।  
 दार न [द्वार] दरवाजा, निकलने का मार्ग (श्रीप; सुपा ३६७) । ० गाला ब्री [० गाला] दरवाजे का आगल (गा ३२२) । ० ड, ० थ वि [० स्थ] १ द्वार पर स्थित । २ पुं. दरवान, प्रतीहार (वृह १; दे २, ५२) । ० पाल, ० वाल पुं [० पाल] दरवान, द्वार-रक्षक (उप ५३० टी; सुर १०, १३६; महा) । ० वालय, ० वालिय पुं. [० पालक, पालिक] दरवान, प्रतीहार (पउम १७, १६; सुपा ४६६) ।  
 दार } पुं [दारक] शिशु, बालक, बच्चा  
 दारग } (उप पृ ३०८; सुर १५, ११६; कप्प) । देखो दारय ।  
 दारद्वंता ब्री [दे] पेटी, संदूक (दे ५, ३८) ।  
 दारय वि [दारक] करनेवाला, विव्वंसक (कुप्र १३०) । २. देखो दारग (कप्प) ।  
 दारिअ वि [दारित] विदारित, फाड़ा हुआ (पात्र) ।

दारिआ ब्री [दारिका] लड़की (स्वप्न १५; शाया १, १६; महा) ।  
 दारिआ ब्री [दे] वेश्या, वारांगना (दे ५, ३८) ।  
 दारिह न [दारिद्र्य] १ निर्धनता । २ दोमता (गा ६७१; महा; प्रासू १७३) । ३ आलस्य (प्रासा) ।  
 दारिहिय वि [दारिद्रित] दरिद्रता-प्राप्त, दरिद्र (पउम ५५, २५) ।  
 दारु न [दारु] काष्ठ, लकड़ी (सम ३६; कुप्र १०४; स्वप्न ७०) । ० ग्गाम पुं [० ग्राम] ग्राम-विशेष (पउम ३०, ६०) । ० दंडय पुंन [० दण्डक] काष्ठ-दण्ड, साधुओं का एक उपकरण (कस) । ० पव्वय पुं [० पर्वत] पर्वत-विशेष (जीव ३) । ० पाय न [० पात्र] काष्ठ का बना हुआ भाजन (ठा ३, ३) । ० पुत्तय पुं [० पुत्रक] कठपुतला (अचु ८२) । ० मड पुं [० मड] भरत-क्षेत्र के एक भावी जिन-देव के पूर्व जन्म का नाम (सम १५४) । ० संकम पुं [० संक्रम] काष्ठ का बना हुआ पुल, सेतु (आचा) ।  
 दारुअ पुं [दारुक] १ श्रीकृष्ण वामुदेव का एक पुत्र, जिसने भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा लेकर उत्तम गति प्राप्त की थी (अंत ३) । २ श्रीकृष्ण का एक सारथि (शाया १, १६) । ३ न. काष्ठ, लकड़ी (पउम २६, ६) ।  
 दारुइज्ज वि [दारुक्रीय] काष्ठ-निर्मित, लकड़ी का बना हुआ । ० पव्वय पुं [० पर्वत] काष्ठ का बना हुआ मालूम पड़ता पर्वत (राय ७५) ।  
 दारुण वि [दारुण] १ विपय; भयंकर, भीषण (शाया १, २; पात्र; गउड) । २ क्रोध-युक्त, रौद्र (वव १) । ३ न. कष्ट, दुःख (स ३२२) । ४ दुर्मित्र, अकाल (उप १३६ टी) ।  
 दारुणी ब्री [दारुणी] विद्यादेवी-विशेष (पउम ७, १४८) ।  
 दालण न [दारण] विदारण, खण्डन (पह १, १) ।  
 दालि ब्री [दे. दालि] १ दाल, दला हुआ चना, अरहर, मूँग आदि अन्न (सुपा ११; सण) । २ राजि, रेखा, लकीर (श्रीव ३२३) ।  
 दालिअ न [दे] नेत्र, आँख (दे ५, ३८) ।

दालिद देखो दारिद (हे १, २५४; प्रासू ७०) ।

दालिदिय देखो दारिदिय (सुर १३, ११६; वजा १३८) ।

दालिम देखो दालिम (प्राप्र) ।

दालियंव न [दालिकाम्ल] दाल का बना हुआ खाद्य-विशेष (पएह २, ५) ।

दालिया लो [दालिका] देखो दालि (उवा) ।

दाली देखो दालि (श्रौष ३२३) ।

दाव सक [दर्श्य] दिखलाना, बतलाना ।

दावड, दावड (हे ४, ३२; गा ३१५) । वक्र.

दावंत (गा ३२०) ।

दाव सक [दापय] दिलाना, दान करवाना ।

दावेड (कस) । वक्र-दावेन (पउम ११७,

२६; सुपा ६१८) । हेऊ. दावेत्तए (कप्य) ।

दाव देखो दाव = दावत (से ३, २६; स्वप्न

१२; अग्नि ३६) ।

दाव पुं [दाव] १ वन, जंगल । २ देव, देवता

(से ६, ४३) । ३ जंगल का अग्नि (पाप्र) ।

ग्नि पुं [ग्नि] जंगल की आग (हे १,

६७) । ंणल, ंनल पुं [ंनल] जंगल

की आग (सण; सुपा १६७; पडि) ।

दावण न [दामन] छान, पशुओं को पेर में

बांधने की रस्ती (कुप्र ४३६) ।

दावण न [दापन] दिलाना (सुपा ४६६) ।

दावणया लो [दापना] दिलाना (स ५१;

पडि) ।

दावद्व पुं [दावद्व] वृक्ष-विशेष (साया १,

११—पत्र १७१) ।

दावर पुं [द्वारपर] १ युग-विशेष, तीसरा युग ।

२ न. द्विक, दो; 'नो तियं नो चव दावर'

(सुप्र १, २, २, २३) । युम्म पुं [युम्म]

राशि-विशेष (ठा ४, ३—पत्र २३७) ।

दावाव सक [दापय] दिलाना । संक.

दावावेड (महा) ।

दाविअ वि [दशित] दिखलाया हुआ, प्रदर्शित

(पाप्र; से १, ५३; ५, ८०) ।

दाविअ वि [दापित] दिलाया हुआ (सुपा

२४१) ।

दाविअ वि [दावित] १ कराया हुआ, उप-

काया हुआ । २ नरम किया हुआ (अचु

८८) ।

दावंत देखो दाव = दापय ।

दास पुं [दर्श] दर्शन, अवलोकन (पड) ।

दास पुं [दास] १ नौकर, कर्मकर (हे २,

२०६; सुपा १२२; प्रासू १७५; स १८;

कप्य) । २ जोवर, मल्लाह, किंवदो धोवरो दासों

(पाप्र) । ंचेड, ंचेटग पुं [ंचेट] १

छोटी उत्र का नौकर । २ नौकर का लड़का

(महा; साया १, २) । सच्च पुं [सच्च]

श्रीकृष्ण (अचु १७) ।

दासरहि पुं [दाशरथि] राजा दशरथ का

पुत्र, रामचन्द्र (से १, १४) ।

दासी लो [दासी] नौकरानी (श्रौष; महा) ।

दासीखट्टरडिया लो [दासीकर्वटिका] जैन

मुनियों की एक शाखा (कप्य) ।

दाह पुं [दाह] १ ताप, जलन, गरमी । २

दहन, भस्मीकरण (हे १, २६४; प्रासू १८)

३ रोग-विशेष (विपा १, १) । ंजर पुं

[ंजर] ज्वर-विशेष (सुपा ३११) । ंक्क-

तिय वि [ंव्युत्क्रान्तिक] जितको दाह

उत्पन्न हुआ हो वह (साया १, १—पत्र

६४) ।

दाह देखो दा = दा ।

दाहग वि [दाहक] जलानेवाला (उवर ८१) ।

दाहण न [दाहन] जलाना, भस्म कराना

(पउम १०२, १६१) ।

दाहविय वि [दाहित] जलवाया हुआ, आग

लगावाया हुआ (हम्मोर २७) ।

दाहिण देखो दक्खिण (नग; कस; हे १,

४५; २, ७२; गा ४३३; ८१६) । दारिय

वि [द्वारिक] दक्षिण दिशा में जिसका

द्वार हो वह । २ न. अग्नि-प्रमुख सात

नक्षत्र (ठा ७) । पच्चस्थिम वि

[पच्चिमीय] दक्षिण और पश्चिम दिशा

के बीच का भाग, नैऋत कोण (भग) ।

पह पुं [पथ] १ दक्षिण देश की ओर का

रास्ता । २ दक्षिण देश; 'पच्च्यमि दाहिणपह'

(पउम ३२, १३) । पुरस्थिम वि [पूर्वीय]

दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच का भाग,

अग्नि-कोण (भग) । वत्त वि [वर्त]

दक्षिण में आबतवाला (शंख आदि) (ठा ४,

२—पत्र २१६) ।

दाहिणा देखो दक्खिणा (ठा ६; सुज १०) ।

दाहिणिल्ल देखो दक्खिणिल्ल (पउम ७, १७;

विपा १, ७) ।

दाहिणी लो [दक्षिणा] दक्षिण दिशा (कुमा) ।

दि वि. व. [द्वि] दो, दो की संख्यावाला

(हे १, ६४; से ६, ५३) ।

दिं देखो दिसा (गा ८६६) । क्करि पुं

[क्करिन्] दिग्-हस्ती (कुमा) । ग्गाईद पुं

[ग्गजेन्द्र] दिग्-हस्ती (गउड) । ग्गाय पुं

[ग्गज] दिग्-हस्ती (स ११३) । चक्कसार

न [चक्कसार] विद्यावरों का एक नगर

(इक) । म्मोह पुं [म्मोह] दिशा-भ्रम (गा

८८६) । देखो दिसा ।

दिअ पुं [दे] दिवस, दिन (दि ५, ३६);

'राईदिआई' (कप्य) ।

दिअ पुं [द्विज] १ ब्राह्मण, विप्र (कुमा;

पाप्र; उप ७६८ टी) । २ दन्त, दाँत । ३

ब्राह्मण आदि तीन वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय

और वैश्य । ४ अण्डज, अण्डे से उत्पन्न

होनेवाला प्राणी । ५ पत्नी । ६ वृक्ष-विशेष,

टिक्क का पेड़ (हे १, ६४) । राय पुं

[राज] १ उत्तम द्विज । २ चन्द्रमा (सुपा

४१२; कुप्र १६) ।

दिक पुं [द्विक] काक, कौआ (उप ७६८ टी) ।

दिअ पुं [द्विप] हस्ती, हाथी (हे २, ७६) ।

दिअ न [दिव] स्वर्ग, देवलोक (पिंग) ।

लोअ, लोअ पुं [लोक] स्वर्ग, देवलोक

(पउम २२, ४५; सुर ७, १) ।

दिअ वि [दित] छिन्न, काटा हुआ (पम्मो

१) ।

दिअ वि [द्वत] हत, मार डाला हुआ, चंदेण

व दिपराएण जेण आणंदियं भुवणं' (कुप्र

१६) ।

दिअंत पुं [दिगन्त] दिशा का प्रान्त भाग

(महा) ।

दिअंवर वि [दिगम्बर] १ नग्न, नंगा, वस्त्र-

रहित । २ पुं. एक जैन संप्रदाय (भवि; उवर

१२२; कुप्र ४४३) ।

दिअज्ज पुं [दे] सुवर्णकार, सोनार (दे

५, ३६) ।

दिअधुत्त पुं [दे] काक, कौआ (दि ५, ४१) ।

दिअर पुं [देवर] पति का छोटा भाई (गा

३५; प्राप्र; पाप्र; हे १, १४६; सुपा ४८०) ।



दिअलिअ वि [दि] मूलं, अज्ञानो (दि ५, ३६)।

दिअली लो [दि] स्त्रुणा, लम्मा, लूँठी (पात्र)।

दिअस पुंन [दिवस] दिन, दिवस (गउड; पि २६४)। °कर पुं [°कर] सूर्य, रवि (से १, ५३)। °नाह पुं [°नाथ] सूर्य, सूरज (पउम १४, ८३)। °चर देखो °कर (पात्र)। देखो दिवस।

दिअसिअ न [दि] १ सदा-भोजन (दि ५, ४०)। २ अनुदिन, प्रतिदिन (दि ५, ४०, पात्र)।

दिअह देखो दिअस (प्राप्र; पात्र)।

दिअहुत्त न [दि] पूर्वाह्न का भोजन, दुपहर का भोजन (दि ५, ४०)।

दिआ अ [दिआ] दिन, दिवस (पात्र; गा ६६; सम १६; पउम २६, २६)। °णिस न [°निश] दिन-रात, सदा (पिग)। °राअ न [°रात्र] दिन-रात, सर्वदा (सुपा ३१८)। देखो दिवा।

दिआहम पुं [दि] भास पत्नी (दि ५, ३६)।

दिआइ देखो दुआइ (पात्र)।

दिइ लो [दिति] मशक, चमड़े का जल-पात्र (अनु ५; कुप्र १४६)।

दिउण वि [द्विगुण] दूना, दुगुना (पि २६८)। दित देखो दा = दा।

दिकाण पुं [द्रेष्काण] भेष आदि लत्तों का दसत्रों हिस्सा (राज)।

दिकख सक [दीक्ष] दीक्षा देना, प्रव्रज्या देना, संन्यास देना, शिष्य करना। दिक्खे (उत्र)। वक. दिक्खंत (सुपा ५२६)।

दिकख देखो दकख। दिक्खइ (पि ६६)।

दिकखा लो [दीक्षा] १ प्रव्रज्या देना, दीक्षण (ओष ७ भा)। २ प्रव्रज्या, संन्यास (धर्म २)। दिक्खिअ वि [दीक्षित] जिसको प्रव्रज्या दी गई हो वह, जो साधु बनाया गया हो वह (उत्र)।

दिगंठा देखो दिगिन्ना (पि ७४)।

दिगंवर देखो दिअंवर (इक; आवम)।

दिगिन्ना लो [जिघत्सा] बुझना, भुख (सम ४०; वित्ते २५६४; उत २; आचू)।

दिगिच्छं सक [जिघत्स्] खाने को चाहना। वक. दिगिच्छंत (आचा; पि ५५५)।

दिगु पुं [द्विगु] व्याकरण-प्रसिद्ध एक समास (अणु; पि २६८)।

दिग्गु देखो दिगु (अणु १४७)।

दिग्व देखो दीह (हे २, ६१; प्राप्र; संखि १७; स्वप्न ३८; वित्ते ३४६७)। °गंगूल, लंगूल वि [°लाङ्गूल] १ लम्बी पूँछवाला २ पुं. वानर (पइ)।

दिग्धिआ लो [दीर्घिका] बापी, सोड़ीवाला कूप-विशेष (स्वप्न ५६; विक्र १३६)।

दिच्छा लो [दित्सा] देने की इच्छा (कुप्र २६६)।

दिज देखो दिअ = द्विज (कुमा)।

दिज्ज वि [दिय] १ देने योग्य। २ जो दिया जा सके। ३ पुंन. कर-विशेष (विपा १, १)।

दिज्जंत } देखो दा = दा।  
दिज्जमाण }

दिट्ठ वि [द्विट्ठ] कथित, प्रतिपादित, कहा हुआ (उप ७६८ टी)।

दिट्ठ वि [द्विट्ठ] १ देखा हुआ, विलोकित (ठा ४, ४; स्वप्न २८; प्रासू १११)। २ अभिमत (अणु)। ३ ज्ञात, प्रमाण से जाना हुआ (उप ८८२; वृह १)। ४ न. दर्शन, विलोकन (ठा २, १)। °पाठि वि [°पाठिन्] चरक-मुश्रुतादि का जानकार (ओष ७४)। °लाभिय पुं [°लाभिक] दृष्ट वस्तु को ही ग्रहण करनेवाला जैन साधु (परह २, १)।

दिट्ठ न [द्विट्ठ] प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से जानने योग्य वस्तु (धर्म सं ५१८; ५१६)। °साहम्मव न [साधम्मवत्] अनुमान का एक नेद (अणु २१२)।

दिट्ठंत पुं [द्विट्ठन्त] उदाहरण, निदर्शन (ठा ४, ४; महा)।

दिट्ठतिअ वि [द्विट्ठान्तिक] १ जिस पर उदाहरण दिया गया हो वह (वित्ते १००५ टी)। २ न. अभिनय-विशेष (ठा ४, ४—पत्र २८५)।

दिट्ठव्य देखो दकख = द्य।

दिट्ठि लो [द्विट्ठि] १ नेत्र, आँख, नजर (ठा ३, १; प्रासू १६; कुमा)। २ दर्शन, मत (परण १६; ठा ४, १)। ३ दर्शन, अवलोकन, निरीक्षण (अणु)। ४ बुद्धि, मति (सम २५; उत २)। ५ विवेक, विचार

(सूत्र २, २)। °कीव पुं [°कलीव] नष्टक-विशेष (नित्ठ ४)। °जुद्ध न [°जुद्ध] युद्ध-विशेष, आँख की स्थिरता की लड़ाई (पउम ४, ४४)। °वंध पुं [°वन्ध] नजर बांधना (उप ७२८ टी)। °म, °मंत वि [°मत्] प्रशस्त दृष्टिवाला, सम्यग्-दर्शी (सूत्र १, ४; १; आचा)। °राय पुं [°राग] १ दर्शन-राग, अपने धर्म पर अनुराग (धर्म २)। २ चानुप-स्तंभ (अभि ७४)। °ह वि [°मत्] प्रशस्त दृष्टिवाला (पउम २८, २२)। °वाय पुं [°पात] १ नजर डालना (से १०, ५)। २ बारहवाँ जैन ग्रंथ-ग्रंथ (ठा १०—पत्र ४६१)। °वाय पुं [°वाद] बारहवाँ जैन ग्रंथ-ग्रंथ (ठा १०; सम १)।

°विपरिआसिआ लो [°विपर्यासिका, °सिता] मति-भ्रम (सम २५)। °विस पुं [°विप] जितकी दृष्टि में विप हो ऐसा सर्प (से ४, ५०)। °सूल न [°शूल] नेत्र का रोग-विशेष (खाया १, १३—पत्र १८१)।

दिट्ठि लो [द्विट्ठि] तारा, मित्रा आदि योग-दृष्टि (तिरि ६२३)।

दिट्ठिआ अ [द्विट्ठिया] इन अर्थों का सूचक शब्द—१ मंगल। २ हर्ष, आनन्द, खुशी। ३ भाग्य से (हे २, १०४; स्वप्न १६; अग्नि ६५; कुप्र ६५)।

दिट्ठिआ लो [द्विट्ठिआ, °जा] १ क्रिया-विशेष—दर्शन के लिए गमन। २ दर्शन से कर्म का उदय होना (ठा २, १—पत्र ४०)।

दिट्ठिआ लो [द्विट्ठिया] ऊपर देखो (नव १८)।

दिट्ठिआओवएसिआ लो [द्विट्ठिआओवएसिआ] संज्ञा-विशेष (दं ३३)।

दिट्ठेल्लय वि [द्विट्ठेल्लय] देखा हुआ, निरीक्षित (आवम)।

दिड्डे } देखो दड (नाट—मालती १७; सं दिड्डे } १, १४; स्वप्न २०५; प्रासू ६२)।

दिण पुंन [दिन] दिवस (सुपा ५६; दं २७; जो ३५; प्रासू ६५)। °इंद् पुं [°इन्द्र] सूर्य, रवि (सण)। °कय पुं [°कत्] सूर्य, रवि (राज)। °कर पुं [°कर] सूर्य, सूरज (सुपा ३१२)। °नाह पुं [°नाथ] सूर्य, रवि (महा)। °वंधु पुं [°वन्धु] सूर्य, रवि (पुष्क ३७)। °मणि पुं [°मणि]

सूर्य, दिवाकर (पात्र; से १, १८; सुपा २३) ।  
 ० सुह न [ सुख ] प्रमात, प्रातःकाल  
 (पात्र) । ० यर देखो कर (गउड; भवि) ।  
 ० रयणिकरि ली [ रजनिकरी ] विद्या-विशेष  
 (पउम १३८) । ० वइ पुं [ पति ] सूर्य,  
 रवि (पि ३७६) ।

दिग्दि पुं [ दिनेन्द्र ] सूर्य, रवि (सुपा २४०) ।  
 दिग्दि पुं [ दिनेश ] १ सूर्य, सूरज (कप्प) ।  
 २ वारह की संख्या (विवे १४४) ।

दिग्दि वि [ दत्त ] १ दिया हुआ, वितोण  
 (हे १, ४६; प्राप्र; स्वप्न; प्रासू १६४) ।  
 २ निवेशित, स्थापित (परह १, १) ।  
 ३ पुं. भगवान् पार्वनाथ के प्रथम गण-  
 धर (सम १५२) । ४ भगवान् त्रैलोक्यनाथ का  
 पूर्वजन्मीय नाम (सम १५१) । ५ भगवान्  
 चन्द्रप्रभ का प्रथम गणधर (सम १५२) ।  
 ६ भगवान् नमिनाथ को प्रथम भिक्षा देनेवाला  
 एक गृहस्थ (सम १५१) । देखो दिन्न ।

दिग्दि देखो दइन्न (राज) ।

दिग्दिण्ड वि [ दत्त ] दिया हुआ (श्रौष २२  
 भा. टी) ।

दिग्दि वि [ दीप्त ] १ ज्वलित, प्रकाशित (सम  
 १५३; अजि १४; लहुय ११) । २ कान्ति-  
 युक्त, भास्वर, तेजस्वी (पउम ६४, ३५; सम  
 १२२) । ३ तीक्ष्णभूत, निश्चित (सम १५३;  
 लहुय ११) । ४ उज्ज्वल, चमकीला (आदि)  
 ५ पुष्ट, परिवृद्ध (उत्त ३४) । ६ प्रसिद्ध (भग  
 २६, ३) । ७ मारनेवाला (श्रौष ३०२) ।  
 ० चित्त वि [ चित्त ] हृष के अतिरेक से  
 जिसको चित्त-भ्रम हो गया हो वह (वह ३) ।

दिग्दि वि [ दप्त ] १ गाँवित, गर्व-युक्त (श्रौष)  
 २ मारनेवाला । ३ हानि-कारक (श्रौष  
 ३०२) । ० इत्त वि [ चित्त ] २ जिसके मन  
 में गर्व हो । २ हर्ष के अतिरेक से जो पागल  
 हो गया हो वह (ठा ५, ३—पत्र ३२७) ।

दिग्दि ली [ दीप्ति ] कान्ति, तेज, प्रकाश (पात्र;  
 सुर ३, ३२; १०, ४६; सुपा ३७८) । ० म  
 वि [ मत् ] कान्ति-युक्त (गच्छ १) ।

दिग्दि ली [ दीप्ति ] उद्दीपन (उत्त ३२, १०) ।  
 ० इत्त वि [ मत् ] प्रकाशवाला (सम्मत्  
 १५६) ।

दिग्दिक्खा } ली [ दिहक्षा ] देखने की इच्छा  
 दिग्दिच्छा } (राज; सुपा २६४) ।

दिग्दि वि [ दिग्ध ] लिप्त (निद्र १) ।  
 दिग्दि देखो दिग्दि (महा; प्रासू ५७) । ७ श्री  
 गौतम स्वामी के पास पाँच सौ तापसों के  
 साथ जैन दीक्षा लेनेवाला एक तापस (उप  
 १४२ टी; कुप्र २६३) । ८ एक जैन आचार्य  
 (कप्प) ।

दिग्दि पुं [ दत्तक ] गोद लिया हुआ पुत्र (ठा  
 १०—पत्र ५१६) ।

दिग्दि अक [ दीप् ] १ चमकना । २ तेज  
 होना । ३ जलना । दिग्दि (हे १, २२३) ।  
 वक्र. दिग्दिपंत, दिग्दिमाण (से ४, ८; सुर  
 १४, ५६; महा; परह १, ४; सुपा २४०) ।  
 'दिग्दिमाणे तवतेएण' (स ६७५) ।

दिग्दि अक [ वृप् ] वृप्त होना, सन्तुष्ट होना ।  
 दिग्दि (पड) ।

दिग्दि वि [ दीप् ] चमकनेवाला, तेजस्वी (से  
 १, ६१)

दिग्दि (अप) पुं [ दीप् ] १ दीपक । २ छन्द-  
 विशेष (पिग) ।

दिग्दिपंत पुं [ दे ] अनयं (दे ५, ३६) ।

दिग्दिपंत } देखो दिग्दि = दीप् ।  
 दिग्दिमाण }

दिग्दिपर देखो दिग्दि = दीप् (कुमा) ।

दियाव सक [ दा ] देना । दियावेइ (पंचा १३,  
 १२) ।

दिरय पुं [ द्विरद ] हस्ती, हाथी (हे १, ६४) ।

दिल्लिदिल्लिअ [ दि ] देखो दिह्लिदिल्लिअ (गा  
 ७४१) ।

दिल्लिदिल्लिअ अक [ दिल्लिदियाय् ] 'दिल् दिल्'  
 आवाज करना । वक्र. दिल्लिदिल्लिअ (पउम  
 १०२, २१) ।

दिल्लिवेडय पुं [ दिल्लिवेडक ] एक प्रकार का  
 ग्राह, जल-जन्तु की एक जाति (परह १, १) ।

दिल्लिदिल्लिअ पुं [ दि ] बालक, शिशु, लड़का  
 (दे ५, ४०) । ली. आ. वाला, लड़की  
 (गा ७४१) ।

दिव उभ [ दिव् ] १ झोड़ा करना । २  
 जीतने की इच्छा करना । ३ लेन-देन करना ।  
 ४ ज़ाहता, बाँटना । ५ आज्ञा करना ।  
 दिवइ, दिवए (पड) ।

दिव न [ दिव् ] स्वर्ग, देवलोक (कुप्र ४३६;  
 भवि) ।

दिवडड वि [ द्वयपार्थ ] डेढ़, एक और आधा  
 (विसे ६६३; स ५५; सुर १०, २०८; सुपा  
 ५८०; भवि; सम ६६; सुज्ज १; १०, ठा ६) ।

दिवस } देखो दिअस (हे १, २६३; उव;  
 दिवह } प्रासू १२; सुपा ३०७; वेणी ४७) ।  
 ० पुहुत्त न [ पृथक्त्व ] दो से लेकर नव  
 दिन तक का समय (भग) ।

दिवा देखो दिआ (आया १, ४; प्रासू ६०) ।  
 ० इत्ति पुं [ कीर्त्ति ] चारडाल, भंगी (दि  
 ५, ४१) । ० कर पुं [ कर ] सूर्य, सूरज  
 (उत्त ११) । ० किर्त्ति पुं [ कीर्त्ति ] नापित,  
 हजाम (कुप्र २८८) । ० गर देखो कर (आया  
 १, १; कुप्र ४१५) । ० सुह न [ सुख ]  
 प्रमात (गउड) । ० यर देखो कर (सुपा ३६;  
 ३१४) । ० यरत्थ न [ करास ] प्रकाश-  
 कारक अन्न-विशेष (पउम ६१, ४४) ।

दिवायर पुं [ दिवाकर ] १ सिद्धसेन नामक  
 विख्यात जैन कवि और तार्किक । २ पूर्वधर  
 मुनि (सम्मत् १४१) ।

दिवि देखो देव; 'दिविणावि काणपुरिसे-  
 णव्व एसा दासी अहं च विप्पवरो एगया दिट्ठिए  
 दिस्तामो' (रंभा) ।

दिविअ पुं [ द्विचिद ] वानर-विशेष (से ४, ८;  
 १३, ८२) ।

दिविज वि [ दिविज ] १ स्वर्ग में उत्पन्न । २  
 पुं. देव, देवता (अजि ७) ।

दिविट्ट देखो दुविट्ट (राज) ।

दिवे (अप) देखो दिवा (हे ४, ४१६; कुमा) ।

दिव्य वि [ दिव्य ] १ स्वर्ग-सम्बन्धी, स्वर्गीय  
 (स २; ठा ३, ३) । २ उत्तम, सुन्दर, मनोहर  
 (पउम ८, २६१; सुर २, २४२; प्रासू  
 १२८) । ३ प्रधान, मुख्य (श्रौष) । ४ देव-  
 सम्बन्धी (ठा ४, ४; सूय १, २, २) । ५ न.  
 शपथ-विशेष, आरोप की शुद्धि के लिए किया  
 जाता अग्नि-प्रवेश आदि (उप ८०४) । ६  
 प्राचीन काल में अपुत्रक राजा की मृत्यु हो  
 जाने पर जिस चमत्कार-जनक घटना से राज-  
 गद्दी के लिए किसी मनुष्य का निर्वाचन होता  
 था वह हस्ति-नर्जन, अश्व-हेपा आदि अलौ-  
 किक प्रमाण (उप १०३१ टी) । ० माणुस

न [मानुष] देव और मनुष्य संवन्धी हकी-  
कतों का जिसमें वर्णन हो ऐसी कथा-वस्तु  
(स २)।

दिव्य न [दिव्य] १ तैला, तीन दिन का  
लगातार उपवास (संत्रोच ५८)। २ वि. देव-  
सम्बन्धी; 'तिरिया मणुया य दिव्यगा, उव-  
संगा तिविहाहियासिया' (सूत्र १, २, २,  
१५)।

दिव्य देखो दृश्य (सुपा १६१)।

दिव्य देखो देव; 'अमोहं दिव्यदंसणंति' (कुप्र  
११२)।

दिव्याग पुं [दिव्याक] सर्प की एक जाति  
(पण १)।

दिव्यासा स्त्री [दे] चामुण्डा, देवी-विशेष  
(दे ५, ३६)।

दिस सक [दिश] १ कहना। २ प्रतिपादन  
करना। दिसइ (भवि)। कवक. दिस्समाण  
(राज)।

दिस पुं [दिश] एक देव-विमान (देवेन्द्र  
१३१)।

दिस वि [दिश्य] दिशा में उत्पन्न (से ६,  
५०)।

दिसआ स्त्री [दपद्] पत्थर, पापाण (पद्)।

दिसाइ देखो दिसा-दि (सुज्ज ५ टी—पत्र  
७८)।

दिसा } स्त्री [दिश] १ दिशा, पूर्व आदि  
दिसि } दस दिशाएँ (गडड; प्रासू ११३;  
दिसी } महा; सुपा २६७; पण १, ४;  
दं ३१; भग)। २ प्रौढ़ा स्त्री (से १, १६)।

अक न [चक्र] दिशाओं का समूह (गा  
५३०)। कुमरी स्त्री [कुमारी] देवी-  
विशेष (सुपा ४०)। कुमार पुं [कुमार]  
भवनपति देवों की एक जाति (पण २;  
श्रीप)। कुमारी देखो कुमरी (महा; सुपा  
४१)। गअ पुं [गज] दिग्-हस्ती (से  
२, ३; १०, ४६)। गइं पुं [गजेन्द्र]  
दिग्-हस्ती (पि १३६)। चक देखो अक  
(सुपा ५२३; महा)। चकवाल न [चक्र-  
वाल] १ दिशाओं का समूह। २ तप-विशेष  
(निर १, ३)। चर पुं [चर] देशादन  
करनेवाला नक्त (भग १५)। जत्ता देखो

यत्ता (उप ७६८ टी)। जत्तिय देखो  
यत्तिय (ज्वा)। डाह पुं [दाह]  
दिशाओं में होनेवाला एक तरह का प्रकाश,  
जिसमें नीचे अन्वकार और ऊपर प्रकाश  
दोखता है; यह नावी उपद्रवों का सूचक है  
(भग ३, ७)। पुवाय पुं [अनुपात]  
दिशा का अनुसरण (पण ३)। दंति पुं  
[दन्तिन्] दिग्-हस्ती (सुपा ४८)। दाह  
देखो डाह (भग ३, ७)। दि पुं [आदि]  
मेरु पर्वत (सुज्ज ५)। देवया स्त्री [देवता]  
दिशा की अधिष्ठात्री देवी (रंभा)। पोक्सि  
पुं [प्रोक्षिन्] एक प्रकार का वानप्रत्य  
(श्रीप)। भाअ पुं [भाग] दिग्भाग  
(भग; श्रीप; कप्प; विपा १, १)। मत्त न  
[मात्र] अत्यल्प, संक्षिप्त (उप ७४६)।  
मोह पुं [मोह] दिशा का भ्रम (निच  
१६)। यत्ता स्त्री [यात्रा] देशादन, मुसा-  
फिरी (स १६५)। यत्तिय वि [यात्रिक]  
दिशाओं में फिरनेवाला (ज्वा)। लोय पुं  
[आलोक] दिशा का प्रकाश (विपा १,  
६)। वह पुं [पथ] दिशा-रूप मार्ग  
(पठम २, १००)। वाल पुं [पाल]  
दिक्पाल, दिशा का अधिपति (स ३६६)।  
वेरमण न [विरमण] जैन गृहस्थ को  
पालने का एक नियम—दिशा में जाने-आने  
का परिमाण करना (धम्म २)। वय न  
[व्रत] देखो वेरमण (श्रीप)। सोत्थिय  
पुं [स्यस्तिक] स्वस्तिक-विशेष (श्रीप)।  
सोवत्थिय पुं [सौवस्तिक] १ स्वस्तिक-  
विशेष, दक्षिणावर्त्त स्वस्तिक (पण १, ४)  
२ न. एक देव-विमान (सम ३८)। ३ ह्वक  
पर्वत का एक शिखर (ठा ८)। हत्थि पुं  
[हस्तिन्] दिग्गज, दिशाओं में स्थित ऐश्वर्य  
आदि आठ हस्ती। हत्थिकूड पुं [हस्ति-  
कूट] दिशा में स्थित हस्ती के आकारवाला  
शिखर-विशेष, वे आठ हैं—पश्चोत्तर, नील-  
वन्त, मुहस्ती, अञ्जनगिरि, कुमुद, पलाय,  
अवतंस और रोचनगिरि (जं ४)।

दिसेभ पुं [दिग्भिभ] दिग्गज, दिग्-हस्ती  
(गडड)।

दिस्स वि [दृश्य] देखने योग्य, प्रत्यक्ष ज्ञान  
का विषय (वर्मसं ४२८)।

दिस्स  
दिस्स  
दिस्समाण

देखो दक्ख = दृश्य।

दिस्समाण देखो दिस्स।

दिस्सा देखो दक्ख = दृश्य।

दिहा अ [द्विधा] दो प्रकार (हे १, ६७)।

दिहि स्त्री [धृति] धैर्य, धीरज (हे ३, १३१;  
कुमा)। म वि [मन्] धैर्य-शाली-  
धीर (कुमा)।

दीअ देखो दीव = दीप (गा १३५; ५४७)।

दीअअ देखो दीवय (गा १३५)।

दीअमाण देखो दा = दा।

दीण वि [दीन] १ रंक, गरीब (प्रासू २३)।

२ दुःखित, दुःस्व (णाय १, १)। ३ हीन,  
न्यून (ठा ४, २)। ४ शोक-ग्रस्त, शोकानुर  
(विपा १, २; भग)।

दीणार पुं [दीनार] सोते का एक चिक्का  
(कप्प; उप पृ ६४; ५६७ टी)।

दीपक (अप) पुं [दीपक] छन्द-विशेष  
दीपक (पिण)।

दीव देखो दिव = दिव्। वक. अक्वेहि कुमु-  
लेहि दीवय (सूत्र १, २, २, २३)।

दीव सक [दीपय] १ दीपाना; शोनाना।

२ जलाना। ३ तेज करना। ४ प्रकट करना।

५ निवेदन करना। दीवइ (श्रीप ४३४)।

दीवेइ (महा)। वक. दीवयंत (कप्प)।

संक्र. दीवेत्ता (श्रीप ४३४; कस)। क.

दीवणिज्ज (कप्प)।

दीव पुं [दीप] १ प्रदीप, दिया-चिराग, आलोक  
(चार १६; णाय १, १)। २ कल्पवृक्ष की

एक जाति, प्रदीप का कार्य करनेवाला  
कल्पवृक्ष (सम १७)। चंपय न [चम्पक]

दिया का ढकना, दीप-पिधान (भग ८, ६)।

ली स्त्री [ली] १ दीप-पंक्ति। २

दीवाली, पर्व-विशेष, कार्तिक वदी अमावस

(दे ३, ४३)। वली स्त्री [वली]

पूर्वांक्त ही अर्थ (ती १६)।

दीव पुं [दीप] १ जिसके चारों ओर जल

भरा हो ऐसा भूमि-भाग (सम ५१; ठा १०)।

२ भवनपति देवों की एक जाति, दीपकुमार

देव (पण १, ४; श्रीप)। ३ व्याघ्र (जीव १)।

कुमार पुं [कुमार] एक देव-जाति (भग १६, १३)। ण्णु वि [कु] द्वीप के मार्ग का जानकार (उप ५६५)। सागरपन्नत्ति स्त्री [सागरपन्नत्ति] जैन ग्रन्थ-विशेष, जिसमें द्वीपों और समुद्रों का वर्णन है (ठा ३, २—पत्र १२६)।

दीव पुं [द्वीप] सौराष्ट्र का एक नगर, दीव (पव १११)।

दीवअ पुं [दे] इकलास, गिरगिट (दे ५, ४१)।

दीवअ पुं [दीपक] १ प्रदीप, दिया, चिराग, आलोक (गा २२२; महा)। २ वि. दीपक, प्रकाशक, शोभा-कारक (कुमा)। ३ न. छन्द-विशेष (अजि २६)।

दीवंग पुं [दीपाङ्ग] प्रदीप का काम देनेवाले कल्पवृक्ष की एक जाति (ठा १०)।

दीवग देखो दीवअ = दीपक (आ ६; आत्रम)।

दीवड पुं [दे] जलजन्तु-विशेष, 'फुरंतसिपि-संपुडं भर्मतभीपदीवडं' (सुर १०, १८८)।

दीवण न [दीपन] प्रकाशन (शोध ७४)।

दीवणा स्त्री [दीपना] प्रकाश; 'धुम्रो संतगुण-दीवणाहि' (स ६७५)।

दीवणिज्ज वि [दीपनीय] १ जठराग्नि को बढ़ानेवाला (खाया १, १—पत्र १६)। २ शोभायमान, देवोप्यमान (परण १७)।

दीवयं देखो दीव = दिव्।

दीवयंत देखो दीव = दीपय्।

दीवायण पुं [द्वीपायन, द्वैपायन] एक प्राचीन ऋषि, जिसने द्वारका नगरी जलाने का निदान किया था, और जो आगामी उत्सर्पणी काल में भरत-क्षेत्र में एक तीर्थंकर होगा (अंत १५; सम १५४; कुप्र ६३)।

दीवि } पुं [द्वीपिन] व्याघ्र की एक जाति,  
दीविअ } चीता (गा ७६१; खाया १, १—पत्र ६५; पएह १, १)।

दीविअ वि [दीपित] १ जलाया हुआ (पउम २२, ६७)। २ प्रकाशित (शोध)।

दीविअंग पुं [दीपिकाङ्ग] कल्प-वृक्ष की एक जाति जो ग्रन्थकार को दूर करता है (पउम १०२, १२५)।

दीविआ स्त्री [दे] १ उपदेहिका, शुद्र कीट-विशेष। २ व्याघ्र की हरिणों, जो दूसरे

हरिणों के आकर्षण करने के लिए रखी जाती है (दे ५, ५३)। ३ व्याघ्र-संबन्धी पिण्डों में रखा हुआ तितर-पत्ती (खाया १, १७—पत्र २३२)।

दीविआ स्त्री [दीपिका] छोटा दिया, लघु प्रदीप (जीव ३)।

दीविज्ज वि [द्वैप्य] द्वीप में उत्पन्न, द्वीप में पैदा हुआ (खाया १; ११—पत्र १७१)।

दीवी (अप) देखो देवी (रमा)।

दीवी स्त्री [दीपिका] लघु प्रदीप, छोटा दिया; 'दीवि व्व तीइ कुदी' (आ १६)।

दीवूसव पुं [दीपोत्सव] कार्तिक वदी अमावस, दीवाली, दीपावली (तो १६)।

दीसंत } देखो दक्ष = दश्।  
दीसमाण }

दीह वि [दीर्घ] १ आयत, लम्बा (ठा ४, २; प्राप्र; कुमा)। २ पुं. दो मात्रावाला स्वर-

(पिण)। ३ कोशल देश का एक राजा (उप पृ ५८)। काय [काय] अग्निकाय

(आचा०अव्य० १—१—४)। कालिगी स्त्री [कालिका] संज्ञा-विशेष, बुद्धि-विशेष, जिससे

सुदीर्घ भूतकाल की बातों का स्मरण और सुदीर्घ भविष्य का विचार किया जा सकता

है (दं ३२; विसे ५०८)। कालिय वि [कालिक] १ दीर्घ काल से उत्पन्न, चिरंतन; 'दीहकालिएणं रोगात्तंकेणं' (ठा ३, १)। २

दीर्घकाल-सम्बन्धी (आत्रम)। जत्ता स्त्री [यात्रा] १ लम्बी सफर। २ मरण, मौत

(सं ७२६)। डक वि [दृष्ट] जिसको साँप ने काटा हो वह (निचू १)। णिदा स्त्री [निद्रा] मरण, मौत (राज)। दंत

पुं [दन्त] १ भारतवर्ष का एक भावी चक्र-वर्ती राजा (सम १५४)। २ एक जैनमुनि

(अंत)। दंसि वि [दंशिन] दूरदर्शी, दूरन्देशी (सुर ३, ३; सं ३२)। दसा स्त्री, व. [दशा] जैन ग्रंथ-विशेष (ठा १०)।

दिट्टि वि [दृष्टि] १ दूरदर्शी, दूरन्देशी। २ स्त्री. दीर्घ-देशिता (धर्म १)। पट्ट पुं [पृष्ठ] १ सर्व-साँप (उप पृ २२)। २

यवराज का एक मन्त्री (वृह १)। पास पुं [पाश्व] ऐरवत क्षेत्र के सोलहवें भावी जिन-

देव (पव ७)। पेहि वि [प्रेक्षिन] दूर-

दर्शी (पउम २६, २२; ३१, १०६)। वाहु पुं [वाहु] १ भरत-क्षेत्र में होनेवाला तीसरा

वासुदेव (सम १५४)। २ भगवान् चन्द्रप्रभ का पूर्व-जन्मीय नाम (सम १५१)। भद्र

पुं [भद्र] एक जैन मुनि (कण्)। मद्ध वि [मध्य] लम्बा रास्तावाला (खाया १,

१८; ठा २, १; ५, २—पत्र २४०)। मद्ध वि [मद्ध] दीर्घकाल से गम्य (ठा ५, २—पत्र

२४०)। माड न [मायुप्] लम्बा आयुष्य (ठा १०)। रत्त, राय पुं [रात्र] १

लम्बी रात। २ बहु रात्रिवाला, चिर-काल (संज्ञि १७; राज)। राय पुं [राज] एक

राजा (महा)। लोग पुं [लोक] वनस्पति का जीव (आचा)। लोगसत्थ न [लोक-

शरू] अग्नि, वहि (आचा)। वैयड्ड पुं [वैताड्य] स्वनाम-ख्यात पर्वत (ठा २,

३—पत्र ६६)। सुत्त न [सूत्र] १ बड़ा सूता (निचू ५)। २ आलस्य; 'मा कुणसु

दीहसुत्तं परकज्जं सीयलं परिणणंतो' (पउम ३०, ६)। सेण पुं [सेन] १ अनुत्तर-

देवलोक-नामी मुनि-विशेष (अनु २)। २ इस अवसर्पणी काल में उत्पन्न ऐरवत क्षेत्र के

आठवें जिन-देव (पव ७)। उड, उडय वि [ायुप्, आयुष्क] लम्बी उम्रवाला, बड़ी आयुवाला, चिरजीवी (हे १, २०; ठा ३, १;

पउम १४, ३०)। सण न [सन] शय्या (जं १)।

दीह देखो दिअह (कुमा)। दीहंध वि [दिवसान्ध] दिन को देखने में असमर्थ; 'रत्तिधा दीहंधा' (प्रासू १७६)।

दीहजीह पुं [दे] शंख (दे ५, ४१)। दीहपिह देखो दीह-पट्ट (सिदि ६०५)।

दीहर देखो दीह = दीर्घ (हे २, १७१; सुर २, २१८; प्रासू ११३)। च्छ वि [क्ष] लम्बी आँखवाला, बड़े नेत्रवाला (सुपा

१४७)। दीहरिय वि [दीवित] लम्बा किया हुआ (गउड)।

दीहिया स्त्री [दीयिका] वापी, जलाशय-विशेष (सुर १, ६३; कण्)।

दीहीकर सक [दीर्घा + कृ] लम्बा करना। दीहीकरंति (भग)।

दु देखो तु (दे २, ६४) ।

दु देखो दय = दु । कर्म = दुयए (विसे २८) ।

दु वि. व. [द्वि] दो, संख्या-विशेषवाला (हे १, ६४; कम्म १; उवा) ।

दु पुं [दु] २ वृत्त, पेड़, गाछ (उर ५) ।  
२ सत्ता, सामान्य (विसे २८) ।

दु अ [द्विस्] दो वार, दो दफा (सुर १६, ५५) ।

दु अ [दुर] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ अभाव । २ दुःखता, खराबी । ३ मुश्किल, कठिनाई । ४ निन्दा (हे २, २१७; प्राप् १५८; सुपा १४३; शाया १, १; उवा) ।

दुअ न [द्वत] अभिनय-विशेष (राय ५३) ।  
दुअ न [द्विक] युगम, युगल, जोड़ा (से ६२१) ।

दुअ वि [द्वत] १ पीड़ित, हैरान किया हुआ (उप ३२० टी) । १ वेग-युक्त । ३ क्रि. वि. शीघ्र, जल्दी (सुर १०, १०१; अणु) । ० चिल्-विअ न [चिलम्बित] १ छन्द-विशेष । २ अभिनय-विशेष (राय) ।

दुअक्खर पुं [दे] पण्ड, नपुंसक (दे ५, ४७) ।

दुअक्खर वि [द्वयक्षर] १ अज्ञान, मूलं, अल्पज्ञ (उप १२६ टी) । २ पुंल्लो. दास, नौकर (पिड) । लो. ० रिया (आवम) ।

दुअणुअ पुं. [द्वयणुक] दो परमाणुओं का स्कन्ध (विसे २१६२) ।

दुअर वि [दुष्कर] मुश्किल, कठिनाई से जो किया जा सके वह (प्राक् २६) ।

दुअल्ल न [दुकूल] १ वस्त्र, कपड़ा । २ महिन वस्त्र, सूक्ष्मवस्त्र (हे १, ११६; प्राप्) । देखो दुकूल ।

दुआइ पुं [द्विजाति] ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में तीन वर्ण (हे १, ६४; २, ७६) ।

दुआइक्ख वि [दुराख्येय] दुःख से कहने योग्य (ठा ५, १—पत्र २६६) ।

दुआर न [द्वार] दरवाजा, प्रवेश-मार्ग (हे १, ७६) ।

दुआराह वि [दुराराध] जिसका आराधन कठिनाई से हो सके वह (पण्ड १, ४) ।

दुआरिआ लो [द्वारिका] १ छोटा द्वार । २ युग द्वार, अपद्वार (शाया १, २) ।

दुआवत्त न [द्विधावर्त] दृष्टिवाद का एक सूत्र (सम १४७) ।

दुइअ } वि [द्वितीय] दूसरा (हे १, १०१;  
दुइअ } २०६; कुमा; कप्प; रयण ४) ।

दुइल्ल (अप) वि [द्विचतुर] दो-चार, दो या चार (प्राक् १२०) ।

दुउंछ } सक [जुगुप्स्] निन्दा करना,  
दुउंछ } घृणा करना । दुउंछइ, दुउंछइइ (हे ४, ४) ।

दुउण वि [द्विगुण] दूना, दुगुना (दे ५, ५५; हे १, ६४) । ० अर वि [०तर] दूने से भी विशेष, अत्यन्त (से ११, ४७) ।

दुउणिअ वि [द्विगुणित] ऊपर देखो (कुमा) ।

दुऊल्ल देखो दुअल्ल (प्राप्; गा ५६६; पड) ।

दुंडुइ } पुं [दुन्दुभ] १ सर्प की एक जाति  
दुंडुभ } (दे ७, ५१) । २ ज्योतिष्क-विशेष,  
एक महाग्रह (ठा २, ३—पत्र ७८) ।

दुंडुभि देखो दुंडुहि (भग ६, ३३) ।

दुंडुमिअ न [दे] गले की आवाज (दे ५, ४५; पड) ।

दुंडुमिणी लो [दे] रूपवाली लो (दे ५, ४५) ।

दुंडुहि पुंलो [दुन्दुभि] वाद्य-विशेष (कप्प; सुर ३, ६८; गठड; कुप ११८) ।

दुंडवती लो [दे] सरित, नदी (दे ५, ४८) ।

दुकड देखो दुक्कड (द्र ४७) ।

दुकप्प देखो दुक्कप्प (पंच) ।

दुकम्म न [दुष्कर्मन्] पाप, निन्दित काल या काम (आ २७; भवि) ।

दुक्काल पुं [दुष्काल] अकाल, दुर्मित्त (सिदि ४१) ।

दुकिय देखो दुक्कय (भवि) ।

दुकूल पुं [दुकूल] १ वृत्त-विशेष । २ वि. दुकूल वृत्त को छाल से बना हुआ वस्त्र आदि (शाया १, १ टी—पत्र ४३) ।

दुक्कंदिर वि [दुष्कन्दिन्] अत्यन्त आक्रन्द करनेवाला (भवि) ।

दुक्कड न [दुष्कृत] पाप कर्म, निन्द्य आचरण (सम १२५; हे १, २०६; पडि) ।

दुक्कडि } वि [दुष्कृतिन्, ०क] दुष्कृत  
दुक्कडिय } करनेवाला, पापी (सूय १, ५, १; पि २१६) ।

दुक्कप्प पुं [दुष्कल्प] शिथिल साधु का आचरण, पतित साधु का आचार (पंचना) ।

दुक्कम्म न [दुष्कर्मन्] दुष्ट कर्म, अशुभाचरण (सुपा २८; १२०; ५००) ।

दुक्कय न [दुष्कृत] पाप-कर्म (पण्ड १, १; पि ४६) ।

दुक्कर वि [दुष्कर] जो दुःख से किया जा सके, मुश्किल, कष्ट-साध्य (हे ४, ४१४; पंचा १३) । ० आरज वि [०कारक]

मुश्किल कार्य को करनेवाला (गा १७६; हे २, १०४) । ०करण न [०करण] कठिन कार्य को करना (द्र ५७) । ०कारि वि [०कारिन्] देखो ०आरज (उप १६०) ।

दुक्कर न [दे] माय मास में रात्रि के चारों प्रहर में किया जाता स्नान (दे ५, ४२) ।

दुक्करकरण न [दुष्करकरण] पांच दिन का लगातार उपवास (संबोध ५८) ।

दुक्कह वि [दे] अरविवाला, अरोचको (सुर १, ३६; जय २७) ।

दुक्काल पुं [दुष्काल] अकाल, दुर्मित्त (साधं ३०) ।

दुक्किय देखो दुक्कय (भवि) ।

दुक्कुकणिआ लो [दे] पीकदान, पीकदानो (दे ५, ४८) ।

दुक्कुल न [दुष्कुल] निन्दित कुल (वर्म १) ।

दुक्कुइ वि [दे] १ असहन, असहिष्णु, चिड़-चिड़ा । २ लचि-रहित (दे ५, ४४) ।

दुक्ख पुं न [दुःख] १ अनुख, कष्ट, पीड़ा, क्लेश, मन का क्षोभ (हे १, ३३), 'दुक्खा सारोरा मारुसा व संसारं' (संघा १०१; आचा; नग; स्वप्न ५१; ५८; प्राप् ६६; १५२; १८२) । २ क्रि. वि. कष्ट से, मुश्किल से, कठिनाई से (वसु) । ३ वि. दुःखवाला, दुःखित, दुःखयुक्त (वै ३३) । लो. ०क्खा (भग) । ०कर वि [०कर] दुःख-जनक (सुपा १६५) । ०त्त वि [०त्त] दुःख से पीड़ित (सुपा १६१; स ६४२; प्राप् १४४) ।

०त्तगवेसण न [०त्तगवेपण] दुःख से पीड़ित की सेवा, आर्त्त शुभ्रपा (पंचा १६) ।

०मज्जिय वि [अजितदुःख] जिसने दुःख उपार्जन किया हो वह (उत्त ६) । ०आह वि [०आध्य] दुःख से आराधन-योग्य (वज्जा

११२)। ंवह वि [ंवह] दुःख-प्रद (पञ्च १५, १००)। ंसिया ली [ंसिका] वेदना, पीड़ा (ठा ३, ४)। देखो दुह = दुःख।

दुःख न [दि] जघन, ली के कमर के पीछे का भाग चूतड़ (दे ५, ४२)।

दुःख अक [दुःखाय्] १ दुखना, दर्द होना। २ सक. दुःखी करना; 'सिर में दुखेई' (स ३०४)। दुःखामि (से ११, १२७)। दुःखति (सूत्र २, २, ५५)।

दुःखड देखो दुःकर (चास २३)।

दुःखण न [दुःखन] दुखना, दर्द होना (उप ७५१; सूत्र २, २, ५५)।

दुःखम वि [दुःक्षम] १ असमर्थ। २ अशक्य (उत्त २०, ३१)।

दुःखर देखो दुःकर (स्वप्न ६६)।

दुःखरिय पुं [दुःकरिक] दास, नौकर (निवृ १६)।

दुःखरिया ली [दुःकरिका] १ दासी, नौकरानी (निवृ १६)। २ वेश्या, वाराङ्गना (निवृ १)।

दुःखलिय (अप) वि [दुःखित] दुःख-युक्त (भवि)।

दुःखविअ वि [दुःखित] दुःखी किया हुआ (उप ६३४; भवि)।

दुःखाव सक [दुःखाय्] दुःख उपजाना, दुःखी करना। दुःखावेइ (पि ५५६)। वक्र. दुःखावेत (पञ्च ५८-१८)। कवक्र. दुःखाविजंत (श्रावम)।

दुःखावणया ली [दुःखना] दुःखी करना, दर्द उपजाना (भग ३, ३)।

दुःखि वि [दुःखिन्] दुःखी, दुःख-युक्त (आचा)।

दुःखिअ वि [दुःखित] दुःख-युक्त, दुखिया (हे २, ७२; प्राप्र; प्रासू ६३; महा; सुर ३, १६१)।

दुःखुत्तर वि [दुःखोत्तर] जो दुःख से पार किया जाय, जिसको पार करने में कठिनाई हो (पएह १, १)।

दुःखुत्तो अ [द्विस्] दो बार, दो दफा (ठा ५, २—पत्र ३०८)।

दुःखुर देखो दुःखुर (पि ४३६)।

दुःखुल देखो दुःकुल (अवि २१)।

दुःखोह पुं [दुःखौव] दुःख-राशि (पञ्च १०३, १५५; सुपा १६१)।

दुःखोह वि [दुःक्षोभ] कष्ट-क्षोभ, सुस्विर (सुपा १६१; ६२६)।

दुःखंड वि [द्विखण्ड] दो टुकड़ेवाला (उप ६८६ टी; भवि)।

दुःखुत्तो देखो दुःखुत्तो (कस)।

दुःखुर पुं [द्विखुर] दो खुरवाला प्राणी, गौ, भैंस आदि (पएण १)।

दुग न [द्विक] दो, युग्म, युगल, जोड़ा (नव १०; सुर ३, १७; जी ३३)।

दुगंछ देखो दुगंछ। वक्र. दुगंछमाण (उत्त ४, १३)। क. दुगंछणिज्ज (उत्त १३, १६; पि ७४)।

दुगंछणा ली [जुगुप्सना] घृणा, निन्दा (पञ्च ६५, ६५)।

दुगंछा ली [जुगुप्सा] घृणा, निन्दा (पात्र; कुप्र ४०७)। देखो दुगंछा।

दुगंध देखो दुगंध (पञ्च ४१, १७)।

दुगच्छ } सक [जुगुप्स्] घृणा करना, दुगुंछ } निन्दा करना। दुगच्छइ, दुगुंछइ (पड; हे ४, ४)। वक्र. दुगुंछंत, दुगुंछ-माण (कुमा; पि ७४; २१५)। संक्र. दुगुंछिंडं (धर्म २)। क. दुगुंछणीय (पञ्च ४६, ६२)।

दुगसंपुण्ण न [द्विगसंपूर्ण] लगातार दोस दिन का उपवास (संबोध ५८)।

दुगुंछग वि [जुगुप्सक] घृणा करनेवाला (श्राव ३)।

दुगुंछण न [जुगुप्सन] घृणा, निन्दा (पि ७४)।

दुगुंछणा देखो दुगुंछणा (आचा)।

दुगुंछा देखो दुगुंछा (भग)। °कम्म न [°कम्मन्] देखो पीछे का अर्थ (ठा १०)।

°मोहणीय न [°मोहनीय] कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव को अशुभ वस्तु पर घृणा होती है (कम्म १)।

दुगुंछि वि [जुगुप्सिन्] घृणा करनेवाला, नफरत करनेवाला (उत्त २, ४; ६, ८)।

दुगुंछिय वि [जुगुप्सित] घृणित, निन्दित (ओष ३०२)।

दुगुंदुग पुं [दौगुन्दुक] एक समृद्धि-शाली देव (सुपा ३२८)।

दुगुच्छ देखो दुगुंछ। दुगुच्छइ (हे ४, ४; पड)। वक्र. दुगुच्छंत (पञ्च १०५-७५)। क. दुगुच्छणीय (पञ्च ८०, २०)।

दुगुण देखो दुउण (ठा २, ४; णाया १, १; दं ६; सुर ३, २१६)।

दुगुण सक [द्विगुण्य] दुगुना करना। दुगुणेइ (कुप्र २८५)।

दुगुणिअ देखो दुउणिअ (कुमा)।

दुगुल (देखो दुअल (हे १, ११६; कुमा; दुगूल) सुर २, ८०; जं २)।

दुगोत्ता ली [द्विगोत्रा] वल्ली-विशेष (पएण १)।

दुगग न [दि] १ दुःख, कष्ट (दे ५, ५३; पड; पएह १, ३)। २ कटी, कमर (दे ५, ५३)। ३ रण, संग्राम, युद्ध; 'आदत्तं च ऐरिणं दुगं' (स ६३६)।

दुगग वि [दुर्ग] १ जहाँ दुःख से प्रवेश किया जा सके वह, दुगंम स्थान (भग ७, ६ विपा १, ३)। २ जो दुःख से जाना जा सके (सूत्र १, ५, १)। ३ पुंन. किला, गढ़, कोट (सुपा १४८)। °नायग पुं [°नायक] किले का मालिक (सुपा ४६०)।

दुगगइ ली [दुर्गति] १ कुगति, नरक आदि कुत्सित योनि (ठा ३, ३; ५, १; उत्त ७, १८; आचा)। २ विपत्ति, दुःख। ३ दुर्दशा, बुरी अवस्था। ४ कंगालियत, दरिद्रता (पएह १, १; महा; ठा ३, ४; गच्छ २)।

दुगगंठि ली [दुर्गन्धि] दुष्टगन्धि, गिरह-कठिन गांठ (पि ३३३)।

दुगगंध पुं [दुर्गन्ध] १ खराब गन्ध। २ वि. खराब गन्धवाला, दुर्गन्धि (ठा ८—पत्र ४१८; सुपा २१; महा)।

दुगगंधि वि [दुर्गन्धिन्] दुर्गन्धवाला (सुपा ४८७)।

दुगगम वि [दुर्गम] जो कठिनाई से जाना जा सके वह (धर्मवि ४)।

दुगगम } वि [दुर्गम] १ जहाँ दुःख से दुगगम्भ } प्रवेश किया जा सके वह (पञ्च ४०, १३; ओष ७५ भा); 'पडिक्खनरिद-

दुग्गम्म' (सुर ६, १३५) । २ न. कठिनाई, मुश्किल (ठा ५, १) ।

दुग्गय वि [दुर्गत] ? वस्त्र, धन-हीन (ठा ३, ३; गा १८) । २ दुःखी, विपत्ति-ग्रस्त (पात्र; ठा ४, १—पत्र २०२) ।

दुग्गय न [दुर्गन] ? दरिद्रता । २ दुःख; 'सोहंतो जिणदग्धं दोहिच्चं दुग्गयं लहइ' (संवाच ४) ।

दुग्गह वि [दुर्ग्रह] जिसका ग्रहण दुःख से हो सके वह (उप पृ ३६०) ।

दुग्गा स्त्री [दुर्गा] ? पार्वती, गौरी, शिव-पत्नी (पात्र; सुपा १४८) । २ देवी-विशेष (चंड) । ३ पति-विशेष (श्रा १६) ।

दुग्गाई स्त्री [दुर्गादेवी] ? पार्वती; दुग्गाएत्री शिव-पत्नी, गौरी । २ देवी-दुग्गादेई विशेष (पड; हे १, २७०; दुग्गावी कुमा) । रमण पुं [रमण] महादेव, शिव (पड) ।

दुग्गास न [दुर्गास] दुर्भिक्ष, अकाल (पिड-भा ३६) ।

दुग्गिअक्क वि [दुर्गाह, दुर्ग्रह] जिसका ग्रहण दुःख से हो सके वह (सुपा २५५) ।

दुग्गड वि [दुर्गड] अत्यन्त गुप्त, अति प्रच्छन्न (वच ७) ।

दुग्गोअक्क देखो दुग्गिअक्क (से १, ३) ।

दुग्घट्ट वि [दुर्घट्ट] जिसका आच्छादन दुःख से हो सके वह; 'पारदत्तोउएहवएहवेअणदुग्घट्टाट्टिया' (परह १, ३—पत्र ५४) ।

दुग्घट्ट वि [दुर्घट्ट] जो दुःख से हो सके वह, कष्ट-साध्य (सुपा ६३; ३६५) ।

दुग्घट्ट वि [दुर्घट्ट] असंगत (धर्मवि २७०) ।

दुग्घट्टिअ वि [दुर्घट्टित] ? दुःख से संयुक्त । २ खराब रीति से बना हुआ; 'दुग्घट्टिअमंच-अस्त व खरो खरो पाअपडयोए' (गा ६१०) ।

दुग्घर न [दुर्घर] दुष्ट घर (भवि) ।

दुग्घास पुं [दुर्घास] दुर्भिक्ष, अकाल (वृह ३) ।

दुग्घट्ट } पुं [दि] हस्ती, हावी, करी (दे ५, दुग्घोट्ट) ४४; पड; भवि) ।

दुग्घण पुं [दुग्घण] एक प्रकार का मुद्गर, मोंगरा, मुंगरा (परह १, ३—पत्र ४४) ।

दुच्चक न [द्विचक्र] गाड़ी, रकट (श्रीघ ३८३ भा) । 'वइ पुं [पति] गाड़ी का अविपति या मालिक (श्रीघ ३८३ भा) ।

दुच्चिण्ण देखो दुच्चिण्ण (पि ३४०; औप) । दुच्च न [द्वैत्य] दूत-कर्म, समाचार पहुंचाने का कार्य (पात्र) ।

दुच्च देखो दोच्च = द्वितीय, द्विस् (कप्प) ।

दुच्चंडिअ वि [दे] ? दुर्लभित । दुर्विदग्घ, दुःशिक्षित (दे ५, ५५; पात्र) ।

दुच्चंवाल वि [दे] ? कलह-निरस्त, कगड़ाखोर । २ दुश्चरित, दुष्ट आचरणवाला । ३ पत्य-भापी, कड़ा बोलनेवाला (दे ५, ५४) ।

दुच्चज्ज } वि [दुस्त्यज्ज] दुःख से त्यागने } दुच्चय } योग्य (कुमा; उप ७६८ टी) ।

दुच्चर } वि [दुच्चर] ? जिसमें दुःख से } दुच्चरिअ } जाया जाय वह (आचा) । २ } दुःख से जो किया जाय वह (उप ६४८ टी; पउम २२, २०) । 'लाड पुं [लाड] ऐसा ग्राम या देश जिसमें दुःख से जाया जा सके (आचा) ।

दुच्चरिअ न [दुच्चरित] ? खराब आचरण, दुष्ट वर्तन (पउम ३८, १२; उप पृ १११) । २ वि. दुराचारी (दे ५, ४५) ।

दुच्चार वि [दुच्चार] दुराचारी (भवि) ।

दुच्चारि वि [दुच्चारिन्] दुराचारी, दुष्ट आचरणवाला (स ५०३) । स्त्री, णी (महा) ।

दुच्चितिय वि [दुच्चिन्तित] ? दुष्ट चिन्तित (पउम ११८, ६७) । २ न. खराब चिन्तन (पडि) ।

दुच्चिगिच्छ वि [दुच्चिक्खिअ] जिसका प्रती-कार मुश्किल से हो वह (स ७६१) ।

दुच्चिण्ण न [दुच्चिण्ण] ? दुष्ट आचरण, दुश्चरित । २ दुष्ट कर्म—हिना आदि । ३ वि. दुष्ट संचित, एकचित्त की हुई दुष्ट वस्तु (विपा १, १; रागा १, १६) ।

दुच्चेट्ठिय न [दुश्चेट्ठित] खराब चेष्टा, शारी-रिक दुष्ट आचरण (पडि; सुर ६, २३२) ।

दुच्छक वि [द्विपट्टक] बारह प्रकार का; 'मूलं वारं पट्टाणं, आहारो नायणं तिही । दुच्छकस्तावि धम्मस्त, सम्पत्तं परिकत्तियं' (श्रा ६) ।

दुच्छडु वि [दुश्छट्टे] दुस्त्यज, दुःख से छोड़ने योग्य; 'दुच्छडु जीवियासा ज' (धर्मवि १२४) ।

दुच्छेज्ज वि [दुश्छेद] जिसका छेदन दुःखसे हो सके वह (पउम ३१, ५६) ।

दुच्छक देखो दुच्छक (धर्म २) ।

दुजडि पुं [द्विजटिन्] ज्योतिष्क देव-विशेष, एक महाग्रह (ठा २, ३) ।

दुज्जय देखो दुज्जय (महा) ।

दुज्जीह पुं [द्विजिह्व] ? सप, सांप । २ दुर्जन, खल पुरुष (सट्ठि ६३; कुमा) ।

दुज्जंत देखो दुज्जित (राज) ।

दुज्जण पुं [दुर्जन] खल, दुष्ट मनुष्य (प्रासू २०; ४०; कुमा) ।

दुज्जय वि [दुर्जय] जो कष्ट से जीता जा सके (उप १०३१ टी; सुर १२, १३८; सुपा २६) ।

दुज्जाय न [दे] व्यसन, कष्ट, दुःख, उपद्रव (दे ५, ४४; से १२, ६३; पात्र) ।

दुज्जाय वि [दुर्जाय] दुःख से निकलने योग्य (से १२, ६३) ।

दुज्जाय न [दुर्जाय] दुष्ट गमन, कुत्सित गति (आचा) ।

दुज्जंत पुं [दुर्जन्त] एक प्राचीन जैनपुत्रि (कप्प) ।

दुज्जीव न [दुर्जीव] आजोविका का भय (विसे ३४५२) ।

दुर्जीह देखो दुर्जीह (वजा १५०) ।

दुज्जेअ वि [दुर्जेय] दुःख से जीतने योग्य (सुपा २४८; महा) ।

दुज्जोहण पुं [दुर्जोधन] धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ-पुत्र (ठा ४, २) ।

दुज्ज वि [द्वोह] दोहने योग्य (दे १, ७) ।

दुज्ज्माग न [दुर्ज्मान] दुष्ट चिन्तन (धर्म २) ।

दुज्ज्माय वि [दुर्ज्माय] जिसके विषय में दुष्ट चिन्तन किया गया हो वह (धर्म २) ।

दुज्ज्मासय वि [दुर्ज्मासय] जिसकी सेवा कष्ट से हो सके ऐसा (आचा) ।

दुज्ज्मासय वि [दुःक्षप] जिसका नाश कष्ट-साध्य हो वह (आचा) ।

दुज्ज्मासिअ वि [दुर्ज्मासिअ] दुःख से सेवित (आचा) ।

दुष्कोसिअ वि [दुःक्षपित] कष्ट से नाशित (घाचो) ।  
 दुष्ट वि [दुष्ट] दोष-युक्त, दूषित (शोध १६२; पात्र; कुमा) । °पु पुं [°त्मन्] दुष्ट जीव, पापी प्राणी (पञ्च ६, १३६; ७५, १२) ।  
 दुष्ट वि [दे. द्विष्ट] द्वेष-युक्त (शोध ७५७; कस); 'अस्तदुष्टस्त्' (कुप्र ३७१) ।  
 दुष्टाण न [दुःस्थान] दुष्ट जगह (भग १६, २) ।  
 दुष्टु अ [दुष्टु] खराव, अनुन्दर (उप ३२० वे; निर १, १, सुपा ३१८; हे ५, ४०१) ।  
 दुष्णय देखो दुन्नय (विक्र ३७; आवम) ।  
 दुष्णाम न [दुर्नामन्] १ अपकीर्ति, अपयश । २ दुष्ट नाम, खराव आल्या । ३ एक प्रकार का गर्व (भग १२, ५) ।  
 दुष्णिअ वि [दून्] पीड़ित, दुःखित (गा ११) ।  
 दुष्णिअ देखो दुन्निय (राज) ।  
 दुष्णिअत्थ न [दे] १ जघन पर स्थित वस्त्र । २ जघन, स्त्री के कमर के नीचे का भाग (दे ५, ५३) ।  
 दुष्णिक्क वि [दे] दुश्चित, दुराचारी (दे ५, ४५) ।  
 दुष्णिक्कम वि [दुर्निक्कम] जहाँ से निकलना कष्ट-साध्य हो वह (राज ७, ६) ।  
 दुष्णिक्खत्त वि [दे] १ दुराचारी । २ कष्ट से जो देखा जा सके (दे ५, ४५) ।  
 दुष्णिक्खेव वि [दुर्निक्खेव] दुःख से स्थापन करने योग्य (गा १५४) ।  
 दुष्णिक्खोह देखो दुन्निक्खोह (राज) ।  
 दुष्णिमिअ वि [दुर्नियोजित] दुःख से जोड़ा हुआ (सि १२, १६) ।  
 दुष्णिमित्त न [दुर्निमित्त] खराव शकुन, अपशकुन (पञ्च ७०, ५) ।  
 दुष्णिमिदु वि [दुर्निमिदु] दुराग्रही, हठी, जिद्दी (निबू ११) ।  
 दुष्णिमिदिया स्त्री [दुर्निमिदिया] कष्ट-जनक स्वाध्याय-स्थान (पणह २, ५) ।  
 दुष्णेय वि [दुष्णेय] जिसका ज्ञान कष्ट-साध्य हो वह (उच्चर १२८; उप ३२८) ।  
 दुत्तितिकख वि [दुत्तितिकख] दुस्सह, जो दुःख से सहन किया जा सके वह (ठा ५, १) ।

दुत्तर वि [दुस्तर] दुस्तरणीय, दुर्लभ्य (सुपा ४७; ११५; सार्ध ६१) ।  
 दुत्तडी स्त्री [दुस्तटी] १ नदी । २ खराव किनारा वाली नदी (वम्म १२ वे) ।  
 दुत्तव वि [दुस्तप] कष्ट से तपने योग्य; दुःख से करने योग्य (तप) (धमां १७) ।  
 दुत्तार वि [दुस्तार] दुःख से पार करने योग्य, दुस्तर (सि ३, २५; ६, १०) ।  
 दुत्ति अ [दे] शीघ्र, जल्दी (दे ५, ४१; पात्र) ।  
 दुत्तिइक्ख १ देखो दुत्तितिकख (आचा; दुत्तितिकख) राज ।  
 दुत्तुंड पुं [दुस्तुण्ड] दुम्ब, दुर्जन, (सुपा २५८) ।  
 दुत्तोस वि [दुस्तोप] जिसको संतुष्ट करना कठिन हो वह (दस ५) ।  
 दुत्थ न [दे] जघन, स्त्री की कमर के नीचे का भाग (दे ५, ४२) ।  
 दुत्थ वि [दुःस्थ] दुर्गत, दुःस्थित (ठा ३, ३; भवि) ।  
 दुत्थ न [दौःस्थ्य] दुर्गति, दुःस्वता (सुपा २४४); 'नहि विधुरसहावा हंति दुत्थेवि घोरा' (कुप्रा ५४) ।  
 दुत्थिअ वि [दुःस्थित] १ दुर्गत, विपत्ति-ग्रस्त (खण ७५; भवि; सण) । २ निर्धन, गरीब (कुप्र १४६) ।  
 दुत्थुरुहंड पुं [दे] भगड़ाखोर, कलह-शील (दे ५, ४७) । स्त्री. °डा (दे ५, ४७) ।  
 दुत्थोअ पुं [दे] दुर्भग, अमागा (दे ५, ४३) ।  
 दुत्तं वि [दुर्दान्त] उद्धत, दमन करने को अशक्य, दुर्दम; 'विसयपसत्ता दुत्तंइदिया देहिणो वहवे' (सुर ८, १३८; राया १, ५; सुपा ३८०; महा) ।  
 दुत्तंस वि [दुर्देश] दुरालोक, जो कठिनाई से देखा जा सके (उत्तर १४१) ।  
 दुत्तंसण वि [दुर्देशण] जिसका दशनं दुर्लभ हो वह (गा ३०) ।  
 दुत्तम वि [दुर्दम] १ दुर्जय, दुर्निवार (सुपा २४); 'दुदमकदम' (आ १२) । २ पुं. राजा अश्वघोष का एक दूत (आक) ।  
 दुत्तम पुं [दे] देवर, पति का छोटा भाई (दे ५, ४४) ।

दुत्तिट्ट वि [दुर्दृष्ट] १ बुरी तरह से देखा हुआ । २ वि. दुष्ट दृष्टनवाला (पणह १, २—पत्र २६) ।  
 दुत्तिण न [दुर्दिन] वादलों से व्याप्त दिवस (शोध ३६०) ।  
 दुत्तेय वि [दुर्देय] दुःख से देने योग्य (उप ६२४) ।  
 दुत्तेलना स्त्री [दे] गौ, गैया (पड) ।  
 दुत्तेली स्त्री [दे] वृक्ष-पंक्ति, पेड़ों की कतार (दे ५, ४३; पात्र) ।  
 दुत्त न [दुग्ध] दूध, क्षीर (विपा १, ७) ।  
 °जाइ स्त्री [°जाति] मदिरा-विशेष, जिसका स्वाद दूध के जैसा होता है (जीव ३) ।  
 °समुद पुं [°समुद्र] क्षीर-तमुद्र, जिसका पानी दूध की तरह स्वादिष्ट है (गा ३८८) ।  
 दुत्तंस वि [दुर्धंस] जिसका नाश मुश्किल से हो (सुर १, १२) ।  
 दुत्तंगंधिअमुह पुं [दे] बाल, शिशु, छोटा लड़का (दे ५, ४०) ।  
 दुत्तंगंधिअमुही स्त्री [दे] छोटी लड़की (पात्र) ।  
 दुत्तट्टी स्त्री [दे] १ प्रसूति के बाद तीन दिन तक का गो-दुग्ध (पमा ३२) । २ खट्टी द्याद्य से मिश्रित दूध (पव ४—गा २२८) ।  
 दुत्तट्टर वि [दुर्धर] १ दुर्बल, जिसका निवाह मुश्किल से हो सके वह (पणह १—पत्र ४; सुर १२, ५१) । २ गहन, विपम (ठा ६, भवि) । ३ दुर्जय (कुमा) । ४ पुं. रावण का एक सुमट (पञ्च ५६, ३०) ।  
 दुत्तरिस वि [दुर्धरि] १ जिसका सामना कठिनता से हो सके, जीतने को अशक्य (पणह ३, ५; कप्प) ।  
 दुत्तवलेही स्त्री [दे] चावल का आटा डालकर पकाया जाता दूध (पव ४—गाया २२८) ।  
 दुत्तसाडी स्त्री [दे] द्राक्षा मिलाकर पकाया जाता दूध (पव ४—गाया २२८) ।  
 दुत्तिअ न [दे] कद्दू, लौकी; गुजराती में 'दुवो'; (पात्र) ।  
 दुत्तिणिआ स्त्री [दे] १ तैल आदि रखने का भाजन । २ तुम्बी (दे ५, ५४) ।



दुद्धोअहि } पुं [दुग्धोदधि] समुद्र-विशेष,  
दुद्धोदहि } जिसका पानी दूध की तरह  
त्वादिष्ठ है, क्षीरसमुद्र (गा ४७५; उप २११  
टी) ।

दुद्धोदणी व्री [दे] गो-विशेष, जिसको एक  
बार दोहने पर फिर भी दोहन किया जा सके  
ऐसी गाय, कामधेनु (दे ५, ४६) ।

दुधा देखो दुहा (अभि १६१) ।

दुनिमित्त देखो दुण्णिमित्त (आ २७) ।

दुन्नय पुं [दुर्नय] १ दुष्ट नीति, कुनीति । २  
अनेक धर्मवाली वस्तु में किसी एक ही  
धर्म को मानकर अन्य धर्म का प्रतिवाद करने-  
वाला पक्ष (सम्म १५) । ३ वि. दुष्ट नीति,  
अन्याय-कारी (उप ७६८ टी) । ४ कारि वि  
कारिन् ] अन्याय करनेवाला (सुपा ३४६) ।

दुन्निकम देखो दोनिकम (भग ७, ६ टी—  
पत्र ३०७) ।

दुन्निरुह वि [दुर्निग्रह] जिसका निग्रह दुःख  
से हो सके वह, अनिवायं (उप पृ १५३) ।

दुन्निवोह वि [दुर्निबोध] १ दुःख से जानने  
योग्य । २ दुर्लभ (सूत्र १, १५, २५) ।

दुन्निमित्त देखो दुण्णिमित्त (आ २७) ।

दुन्निय न [दुर्नीत] दुष्ट कर्म, दुष्कृत; 'वंचति  
वेदंति य दुन्नियाणि' (सूत्र १, ७, ४) ।

दुन्नियत्थ वि [दे] विट का भेषवाला, निन्द-  
नीय वेष को धारण करनेवाला; केवल जघन  
पर ही वस्त्र-पहिना हुआ; 'लोए वि कुंसंसगी-  
पियं जणं दुन्नियत्थमइवसणं निदइ' (उव) ।

दुन्निरिक्ख वि [दुर्निरीक्ष्य] जो कठिनाई से  
देखा जा सके वह (कप्प; भवि) ।

दुन्निवार वि [दुर्निवार] रोकने के लिए  
अशक्य, जिसका निवारण मुश्किल से हो  
सके वह (सुपा १२३; महा) ।

दुन्निवारणीअ वि [दुर्निवारणीय, दुर्निवार]  
ऊपर देखो (स ३४३; ७४१) ।

दुन्निपण्ण वि [दुर्निपण्ण] खराब सति से  
बैठा हुआ (ठा ५, २—पत्र ३१२) ।

दुप देखो दिअ = द्विप (राज) ।

दुपएस वि [द्विप्रदेश] १ दो अवयववाला ।  
२ पुं. द्वयणुक (उत्त १) ।

दुपएसिय वि [द्विप्रदेशिक] दो प्रदेशवाला  
(भग ५, ७) ।

दुपक्ख पुं [दुप्पक्ष] दुष्ट पक्ष (सूत्र १, ३,  
३) ।

दुपक्ख न. [द्विपक्ष] १ दो पक्ष (सूत्र १, २,  
३) । २ वि. दो पक्षवाला (सूत्र १, १२, ५) ।

दुपडिग्गह न [द्विप्रतिग्रह] दृष्टिवाद का  
एक सूत्र (सम १५७) ।

दुपडोआर वि [द्विप्रदायतार] दो स्थानों में  
जिसका समावेश हो सके वह (ठा २, १) ।

दुपडोआर वि [द्विप्रत्ययतार] ऊपर देखो  
(ठा २, १) ।

दुप्पमज्जिय देखो दुप्पमज्जिय (सुपा ६२०) ।

दुपय वि [द्विपद] १ दो पैरवाला । २ पुं.  
मनुष्य (णामा १, ८; सुपा ४०६) । ३ न.  
गाड़ी, शकट (ओष २०५ भा) ।

दुपय पुं [द्वुपद] कापिल्यपुर का एक राजा  
(णामा १, १६) ।

दुपरिच्चय वि [दुष्परित्यज] दुस्त्यज, दुःख  
से छोड़ने योग्य (उप ७६८ टी; रयण ३४) ।

दुपरिच्चयणीय वि [दुष्परित्यजनीय,  
दुष्परित्यज] ऊपर देखो (काल) ।

दुपस्स देखो दुप्पस्स (ठा ५, १—पत्र  
२६६) ।

दुपुत्त पुं [दुष्पुत्र] कुपुत्र, कपूत (पउम २६,  
२३) ।

दुपेच्छ वि [दुष्प्रेक्ष] दुर्दर्श, अदर्शनीय  
(भवि) ।

दुपपइ पुं [दुप्पति] दुष्ट स्वामी (भवि) ।

दुप्पउत्त वि [दुष्प्रयुक्त] १ दुष्प्रयोग करने-  
वाला (ठा २, १—पत्र ३६) । २ जिसका  
दुष्प्रयोग किया गया हो वह (भग ३, १) ।

दुप्पउल्लिय } वि [दुष्प्रज्वलित] ठीक-ठीक  
दुप्पउल्ल } नहीं पका हुआ, अवपका (उवा,  
पंचा १) ।

दुप्पओग पुं [दुष्प्रयोग] दुष्प्रयोग (दस ४) ।

दुप्पओगि वि [दुष्प्रयोगिन्] दुष्प्रयोग  
करनेवाला (पएह १, १—पत्र ७) ।

दुप्पक वि [दुष्पक्व] देखो दुप्पउल्ल (सुपा  
४७२) ।

दुप्पक्खाल वि [दुष्प्रक्षाल] जिसका प्रक्षालन  
कष्टसाध्य हो वह (सुपा ६०८) ।

दुप्पञ्चुप्पेक्खिय वि [दुष्प्रत्युत्प्रेक्षित] ठीक-  
ठीक नहीं देखा हुआ (पव ६) ।

दुप्पजीवि वि [दुष्प्रजीविन्] दुःख से जीने-  
वाला (दसचू १) ।

दुप्पडिक्कंत वि [दुष्प्रतिक्रान्त] जिसका  
प्रायश्चित ठीक-ठीक न किया गया हो वह  
(विपा १, १) ।

दुप्पडिगर वि [दुष्प्रतिकर] जिसका प्रतीकार  
दुःख से किया जा सके (वृह ३) ।

दुप्पडिपूर वि [दुष्प्रतिपूर] पूरने के लिए  
अशक्य (तंडु) ।

दुप्पडियाणंद वि [दुष्प्रत्यानन्द] १ जो  
किसी तरह संतुष्ट न किया जा सके । २ अति  
कष्ट से तोषणीय (विपा १, १—पत्र ११;  
ठा ४, ३) ।

दुप्पडियार वि [दुष्प्रतिकार] जिसका प्रती-  
कार दुःख से हो सके वह (ठा ३, १—पत्र  
११७; ११६; स १८४; उव) ।

दुप्पडिलेह वि [दुष्प्रतिलेख] जो ठीक-ठीक  
न देखा जा सके वह (पव ८४) ।

दुप्पडिलेहण न [दुष्प्रतिलेखन] ठीक-ठीक  
नहीं देखना (आव ४) ।

दुप्पडिलेहिय वि [दुष्प्रतिलेखित] ठीक से  
नहीं देखा हुआ (सुपा ६१७) ।

दुप्पडिवृह वि [दुष्प्रतिवृंह] १ बढ़ाने को  
अशक्य । २ पालने को अशक्य (आचा) ।

दुप्पडिवृहण वि [दुष्प्रतिवृंहण] ऊपर  
देखो (आचा) ।

दुप्पणिहाण न [दुष्प्रणिधान] दुष्प्रयोग,  
अशुभ प्रयोग, दुष्प्रयोग (ठा ३, १, सुपा  
५४०) ।

दुप्पणिहिय वि [दुष्प्रणिहित] दुष्प्रयुक्त,  
जिसका दुष्प्रयोग किया गया हो वह (सुपा  
५५८) ।

दुप्पणीहाण देखो दुप्पणिहाण; 'कयसामइ-  
ओवि दुप्पणीहाणं' (सुपा ५५३) ।

दुप्पणोल्लिय वि [दुष्प्रणोद्य] दुस्त्यज, छोड़ने  
को अयोग्य (सूत्र १, ३, १) ।

दुप्पणवणिज्ज वि [दुष्प्रज्ञापनीय] कष्ट  
से प्रवीचनीय (आचा २, ३, १) ।

दुप्पतर वि [दुष्प्रतर] दुस्तर (सूत्र १,  
५, १) ।

दुष्प्रधंस वि [दुष्प्रधंस] दुर्घणं, दुर्जय (उत्त ६; वि ३०५) ।

दुष्प्रमज्जण न [दुष्प्रमार्जन] ठीक-ठीक सफा नहीं करना (धर्म ३) ।

दुष्प्रमज्जिय वि [दुष्प्रमार्जित] अच्छी तरह से सफा नहीं किया हुआ (सुपा ६१७) ।

दुष्प्रय देखो दुष्प्रय = द्विपद (सम ६०) ।

दुष्प्रयार वि [दुष्प्रचार] जिसका प्रचार दुष्ट माना जाता है वह, अन्याय-युक्त (कम्प) ।

दुष्परककंत वि [दुष्परक्रान्त] बुरी तरह से आक्रान्त (आचा) ।

दुष्परिअल्ल वि [दे] १ अशक्य (दे ५, ५५; पात्र; से ४, २६; ६, १८; गा १२२) । २ द्विगुण, दुगुना । ३ अनन्यस्त, अग्रांस-रहित (दे ५, ५५) ।

दुष्परिइअ वि [दुष्परिचित] अपरिचित (से १३, १३) ।

दुष्परिच्य देखो दुष्परिच्य (उत्त ८) ।

दुष्परिणाम वि [दुष्परिणाम] जिसका परिणाम खराब हो, दुर्विपाक (भवि) ।

दुष्परिमांस वि [दुष्परिमर्ष] कष्ट-साध्य स्पर्शवाला (से ६, २४) ।

दुष्परियत्तण देखो दुष्परियत्तण (तंदु) ।

दुष्परिल्ल वि [दे] दुराकर्ष, 'आलिहिअ दुष्परिल्लपि खेइ रणं वणुं वाहो' (गा १२२) ।

दुष्परिवत्तण वि [दुष्परिवर्त्तन] १ जिसका परिवर्तन दुःख से हो सके वह । २ न. दुःख से पीछे लौटना (तंदु) ।

दुष्पवंच पुं [दुष्प्रपञ्च] दुष्ट प्रपंच (भवि) ।

दुष्पवण पुं [दुष्प्रवण] दुष्ट वाणु (भवि) ।

दुष्पवेश वि [दुष्प्रवेश] जहाँ कष्ट से प्रवेश हो सके वह (णया १, १; पउम ४३, १२; सं २५३; सुपा ४५५) । १ तर वि [तर] प्रवेश करने को अशक्य (परह १, ३—पत्र ४५) ।

दुष्पसह पुं [दुष्प्रसह] पंचम आरे के अन्त में होनेवाला एक जैन आचार्य, एक भावी जैन सूरि (उप ८०६) ।

दुष्पस वि [दुर्दर्श] जो मुश्किल से दिखलाया जा सके वह (ठा ५, १ टी—पत्र २६६) ।

दुष्प्रहंस वि [दुष्प्रधंस्य] जिसका नाश कठिनाई से हो सके वह (णया १, १८—पत्र २३६) ।

दुष्प्रहंस वि [दुष्प्रधृष्य] अजेय, दुर्जय (णया १, १८) ।

दुष्प्रह वि [दुष्प्रभ] जो दुःख से सूक सके वह; दुर्गम (मोह ७२) ।

दुष्प्राय न [दुष्प्राप] तप-विशेष, आयंवि ल तप (संबोध ५८) ।

दुष्प्रिड पुं [दुष्प्रिट्] दुष्ट पिता (सुपा ३८७; भवि) ।

दुष्प्रिच्छ देखो दुष्प्रिच्छ (सुर २, ५; सुपा ६२) ।

दुष्प्रिय वि [दुष्प्रिय] अप्रिय । १ 'आसि वि [आपिन्] अप्रिय-वक्ता (सुपा ३१४) ।

दुष्प्रुत्त देखो दुष्प्रुत्त (पउम १०५, ७२; भवि; कुप्र ४०५) ।

दुष्प्रूर वि [दुष्प्रूर] जो कठिनाई से पूरा किया जा सके (स १२३) ।

दुष्प्रेक्त्व देखो दुष्प्रेक्त्व (सण) ।

दुष्प्रेक्खणिज्ज वि [दुष्प्रेक्षणीय] कष्ट से दर्शनीय (ताट—वेणी २५) ।

दुष्प्रेच्छ देखो दुष्प्रेच्छ (महा) ।

दुष्प्रोलिय देखो दुष्प्रोलिय (आ २१) ।

दुष्प्रुत्त वि [दुष्प्रुत्त] मुश्किल से फटने योग्य (त्रि ८३) ।

दुष्प्रुरिस वि [दुःस्पर्श] जिसका स्पर्श खराब दुष्प्रुत्त } हो वह (पउम २६, ४६; १०१, दुष्प्रुत्त } ७१, ठा ८; भग) ।

दुष्प्रुत्त वि [दुष्प्रुत्त] स्निग्ध और शीत आदि अविच्छेद दो स्पर्शों से युक्त (भग) ।

दुष्प्रुत्त वि [दुर्वृद्ध] खराब रीति से बँधा हुआ (आचा २, ६, ३) ।

दुष्प्रुत्त वि [दुर्वल] निर्बल, बलहीन (विपा १, ७; सुपा ६०३; प्रासू २३) । १ पच्छव-मित्त पुं [प्रत्यवमित्त] दुर्वल को मदद करनेवाला (ठा ६) ।

दुष्प्रुत्त वि [दुर्वलिक] दुर्वल, निर्बल (भय १२, २) । १ 'पूसमित्त पुं [पुष्य-मित्त] स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन आचार्य (ठा ७; वी ७) ।

दुष्प्रुत्तिय न [दौर्बल्य] श्रम, थाक, थकावट (आचा २, ३, २, ३) ।

दुष्प्रुत्तिय वि [दुर्वृद्धि] १ दुष्ट बुद्धिवाला, खराब नियतवाला (उप ७२८; सुपा ४४; ३७६) । २ श्री. खराब बुद्धि, दुष्ट नियत (आ १४) ।

दुष्प्रुत्तिय पुं [दे] उपालम्भ, उलहना या उलाहना (दे ५, ४२) ।

दुष्प्रुत्तिय वि [दुर्ग] दोहा हुआ । २ न. दोहन (प्राक ७७) ।

दुष्प्रुत्तिय देखो दुष्प्रुत्तिय = दुष्प्रुत्तिय ।

दुष्प्रुत्तिय वि [दुर्भग] १ कमनसीब, अभाग । २ अप्रिय, अनिष्ट (परह १, २; प्रासू १४३) ।

१ 'नाम, नाम न [नामन्] कर्म-विशेष जिसके उदय से उपकार करनेवाला भी लोगों को अप्रिय होता है (कम्म १; सम ६७) ।

१ 'करा श्री [करा] दुर्भग बनानेवाली विद्या-विशेष (सूत्र २, २) ।

दुष्प्रुत्तिय न [दौर्भाग्य] दुर्भगता, लोक में अप्रियता (पिड ५०२) ।

दुष्प्रुत्तिय श्री [दुर्भरणि] दुःख से निर्वाह, होउ अणणी तीसि दुर्भरणी पडउ तदु-वरस्तावि' (सुपा ३७०) ।

दुष्प्रुत्तिय पुं [दुर्भाव] १ हेय पदार्थ (पउम ८६, ६६) । २ असद्-भाव, खराब-असतः 'पिसुणेण व जेण कथो दुष्भावो' (सुर ३, १६) ।

दुष्प्रुत्तिय पुं [द्विभाव] विभाग, बूटाई (सुर ३, १६) ।

दुष्प्रुत्तिय पुं [द्विभाव] द्विव, दुगुनापन (चिइय ६६०) ।

दुष्प्रुत्तिय न [दुर्भाषित] खराब वचन (पउम ११८, ६७; पडि) ।

दुष्प्रुत्तिय पुं [दुर्भि] १ खराब गन्ध (सम ४१) । २ वि. अशुभ, खराब, असुन्दर (ठा १) । ३ वि. खराब गन्धवाला; दुर्गन्धि (आचा) । १ 'गंध [गन्ध] पूर्वोक्त ही अर्थ (ठा १; आचा; णया १, १२) । १ 'सद् पुं. [शब्द] खराब शब्द (णया १, १२) ।

दुष्प्रुत्तिय पुं [दुर्भिक्ष] १ दुष्काल, अकाल, वृष्टि का अभाव (सम ६०; सुपा ३५८); 'आसन्ने रणरगे, मूढे खंते तहेव दुष्प्रुत्तिये ।

जस्त मुहं जोइज्जइ, सो पुरिसो महीयले विरलो' (खण ३२)।

२ भिक्षा का अभाव (ठा ५, २)। ३ वि. जहाँ पर भिक्षा न मिल सके वह देश आदि (ठा ३, १—पत्र ११८)।

दुम्भिज्ज देखो दुम्भेज्ज (पउम ८०, ६)।

दुम्भूइ वी [दुम्भूति] अशिव, अमंगल (वृह ३)।

दुम्भूय पुंन [दुम्भूत] १ नुक़शान करनेवाला जन्तु—टिड्डी वगैरह (भग ३, २)। २ न. अशिव, अमंगल (जीव ३)।

दुम्भूय वि [दुम्भूत] दुराचारी (उत्त १७, १७)।

दुम्भेज्ज वि [दुम्भेज्ज] तोड़ने को अशम्य (पि ८४; २८७; नाट—मुच्छ १३३)।

दुम्भेय वि [दुम्भेय] ऊपर देखो (राय)।

दुम्भग देखो दुम्भग (नव १५)।

दुम्भव न [दुम्भव] वर्तमान और आगामी जन्म, 'दुम्भवहदसज्जो' (आ २७)।

दुम्भाग पुं [दुम्भाग] आचा, अर्थ (भग ७, १)।

दुम्भ चक [धवल्य] १. सफ़ेद करना। २ चूना आदि से पोतना। दुम्भइ (हे ४, २४)।

दुम्भु (गा ७४७)। वक्र. दुम्भंत (कुमा)।

दुम्भ पुं [द्रुम] १ वृक्ष, पेड़, गाछ (कुमा; प्रासू ६; १४६)। २ चमरेन्द्र के पदाति-

सैन्य का एक अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२; इक)। ३ राजा श्रेणिक का एक पुत्र, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर देवलोक की गति प्राप्त की थी (अनु २)। ४ न. एक देव-विमान (सम ३५)। ५ कंत न [कान्त] एक विद्याधर-

नगर (इक)। ६ पत्त न [पत्र] १ वृक्ष का पत्ता। २ 'उत्तराध्ययन' सूत्र का एक अध्ययन (उत्त १०)। ३ पुष्पिका वी [पुष्पिका]

'दशवैकालिक' सूत्र का पहला अध्ययन (दस १)। ४ राय पुं [राज] उत्तम वृक्ष (ठा ४, ४)। ५ सेण पुं [सेन] १ राजा श्रेणिक का एक पुत्र, जिसने भगवान् महावीर के

पास दीक्षा लेकर अनुत्तर देवलोक में गति प्राप्त की थी (अनु २)। २ नववें बलदेव और वासुदेव के पूर्व-जन्म के धर्म-गुरु (सम १५३; पउम २०, १७७)।

दुम्भइ वी [दुम्भइ] १. सफ़ेद करना। २ चूना आदि से पोतना। दुम्भइ (हे ४, २४)।

दुम्भु (गा ७४७)। वक्र. दुम्भंत (कुमा)।

दुम्भ पुं [द्रुम] १ वृक्ष, पेड़, गाछ (कुमा; प्रासू ६; १४६)। २ चमरेन्द्र के पदाति-

सैन्य का एक अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२; इक)। ३ राजा श्रेणिक का एक पुत्र, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर देवलोक में गति प्राप्त की थी (अनु २)। ४ न. एक देव-विमान (सम ३५)। ५ कंत न [कान्त] एक विद्याधर-

दुम्भतय पुं [दे] केश-वन्ध, धम्मिल्ल—बैंधी चोटो, जूड़ा (दे ५, ४७)।

दुम्भण न [धवलन] चूना आदि से लेपन, सफ़ेद करना (परह २, ३)।

दुम्भणी वी [दे] सुवा, मकान आदि पोतने का श्वेत द्रव्य-विशेष, चूना (दे ५, ४४)।

दुम्भत्त वि [द्विमात्र] दो मात्रावाला स्वर-वर्ण (हे १, ६४)।

दुम्भासिय वि [द्वैमासिक] दो मास का, दो मास-सम्बन्धी (सण)।

दुम्भिअ वि [धवलित] चूना आदि से पोता हुआ, सफ़ेद किया हुआ (गा ७४७; सुज्ज २०)।

दुम्भिल देखो दुम्भिल (पिग)।

दुम्भुह पुं [द्विमुख] एक राजपि (उत्त ६)।

दुम्भुह देखो दुम्भुह = दुम्भुह (पि ३४०)।

दुम्भुहत्त पुंन [दुम्भुहत्त] खराब मुहूर्त, दुष्ट समय (सुपा २३७)।

दुम्भोक्ख वि [दुम्भोक्ख] जो दुःख से छोड़ा जा सके (सूत्र १, १२)।

दुम्भ देखो दूम् = वावयु। दुम्भइ (भवि)।

दुम्भेति, दुम्भेसि (गा १७७; ३४०)। कर्म.

दुम्भिज्ज (गा ३२०)।

दुम्भइ वि [दुम्भइ] दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धिवाला (आ २७; सुपा २५१)।

दुम्भइणी वी [दे] भगड़ाखोर वी (दे ५, ४७; पड)।

दुम्भण वि [दुम्भण] १ दुम्भणा, खिल्ल-मनस्क, उद्विग्न-चित्त, उदास (विपा १, १; सुर ३, १४७)। २ दोन, दोनतायुक्त। ३ द्विष्ट, द्वेष-युक्त (ठा ३, २—पत्र १३०)।

दुम्भण अक [दुम्भणाय] उद्विग्न होना, उदास होना। वक्र. दुम्भणाअंत, दुम्भणा-

यमाण (नाट—महावी ६६, मालती १२८; खण ७६)।

दुम्भणिअ न [दुम्भणित्त] उदासी, उद्वेग, चिन्ता, बेचैनी (दस ६, ३)।

दुम्भणिअ न [दुम्भणित्त] दुष्ट मनो-भाव, मन का दुष्ट विकार, दुर्जनता (दस ६, ३, ८)।

दुम्भय पुं [द्रुमक] भिवारी, भोवमंगा (दस ७, १४)।

दुम्भय पुं [द्रुमक] भिवारी, भोवमंगा (दस ७, १४)।

दुम्भहिला वी [दुम्भहिला] दुष्ट वी (श्रीघ ४६४ टी)।

दुम्भाण पुं [दुम्भान] झूठा धर्मिमान, निन्दित गर्व (अच्छु ५४)।

दुम्भार पुं [दुम्भार] विषम मार, भयंकर ताड़न; 'दुम्भारेण मभ्रो सोवि' (आ १२)।

दुम्भारि वी [दुम्भारि] उल्टा मारी-रोग (संवेध २)।

दुम्भारुय पुं [दुम्भारुय] दुष्ट पवन (भवि)।

दुम्भिअ वि [दुम्भिअ] उपतापित, पीड़ित (गा ७४; २२४; ४२३; भवि; काप्र ३०)।

दुम्भिल वी [दुम्भिल] दुष्ट-विशेष। वी-ला (पिग)।

दुम्भुह देखो दुम्भुह = द्विमुख (महा)।

दुम्भुह पुं [दुम्भुह] बलदेव का धारणी-देवी से उत्पन्न एक पुत्र, जिसने भगवान् नेमिनाय के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाई थी (अंत ३, परह १, ४)।

दुम्भुह पुं [दे] मकंद, वानर, वन्दर (दे ५, ४४)।

दुम्भेह वि [दुम्भेह] दुर्बुद्धि, दुर्मति (परह ६, ३)।

दुम्भोअ वि [दुम्भोअ] दुःख से छोड़ने योग्य (अभि २४४)।

दुम्भु देखो दुम्भुअ (धर्मसं ६४०)।

दुरइक्कम वि [दुरइक्कम] दुर्लभ्य, जिसका उल्लंघन दुःख-साध्य हो वह (आचा)।

दुरइक्कमणिज्ज वि [दुरइक्कमणिज्ज] ऊपर देखो (आया १, ५)।

दुरंत वि [दुरंत] १ जिसका परिणाम—विपाक खराब हो वह, जिसका पर्यन्त दुष्ट हो वह (आया १, ८; परह १, ४—पत्र ६५; स ७५०, उवा)। २ जिसका विनाश कष्ट-साध्य हो वह (तंदु)।

दुरंदर वि [दे] दुःख से उत्तीर्ण (दे ५, ४६)।

दुरक्ख वि [दुरक्ख] जिसकी रक्षा करना कठिन हो वह (सुपा १४३)।

दुरक्खर वि [दुरक्खर] पुरुष, कठोर, कड़ा (वचन) (भवि)।

दुरग्गह पुं [दुराग्रह] कदाग्रह (कुप्र ३७६)।

दुरज्जवासिय न [दुरज्जवासिय] दुष्ट चिन्तन (सुपा ३७७)।

दुरणुचर वि [दुरनुचर] जिसका अनुष्ठान कठिनता से हो सके वह; दुष्कर; 'एसो जईए धम्मो दुरणुचरो मंदसत्ताए' (सुर १४, ७५; ठा ५, १—पत्र २६६; शाया १, १)।

दुरणुपाल वि [दुरनुपाल] जिसका पालन कष्ट-साध्य हो (उत्त २३)।

दुरप्प पुं [दुरात्मन्] दुष्ट आत्मा, दुर्जन (उव; महा)।

दुरव्भास पुं [दुरभ्यास] खराब आदत (सुपा १६७)।

दुरभि देखो दुग्धि (अणु; पउम २६, ५०; १०२, ४४; परह २, ५; आचा)।

दुरभिगम वि [दुरभिगम] १ जहाँ दुःख से गमन हो सके वह, कष्ट-गम्य (ठा ३, ४)।

२ दुर्वोध, कष्ट से जो जाना जा सके (राज)।

दुरमंच पुं [दुरमात्य] दुष्ट मंत्री (कुप्र २६१)।

दुरवगम वि [दुरवगम] दुर्वोध (कुप्र ४८)।

दुरवगम्म देखो दुरवगम (चिइय २५६)।

दुरवगाह वि [दुरवगाह] दुष्प्रवेश, जहाँ प्रवेश करना कठिन हो; वह (हे १, २६; सम १४५)।

दुरस वि [दूरस] खराब स्वादवाला (भग; शाया १, १२; ठा ८)।

दुरसण पुं [दूरसन] १ सर्प, सर्प। २ दुर्जन, दुष्ट मनुष्य (सुपा ५६७)।

दुरहि देखो दुरभि (उप ७२८ टी; तंदु)।

दुरहिगम देखो दुरभिगम (सम १४५; विसे ६०६)।

दुरहिगम्म वि [दुरभिगम्य] दुःख से जानने योग्य, दुर्वोध; अत्यगई वि अ नयवायगहण-लोणा दुरहिगम्मा (सम्म १६१)।

दुरहियास वि [दुरध्यास, दुरधिसह] दुस्सह, जो कष्ट से सहन किया जा सके (शाया १, १; आचा; उप १०३१ टी; स ६५७)।

दुराणण पुं [दुरानन] विद्यावर वंश का एक राजा (पउम ५, ४५)।

दुराणुवत्त वि [दुरनुवर्त] जिसका अनुवर्तन कष्ट-साध्य हो वह (वव ३)।

दुराय न [दुरात्र] दो रात (ठा ५, २; कस)।

दुरायार वि [दुराचार] १ दुराचारी, दुष्ट आचरणवाला (सुर २, १६३, १२, २२६; वेणी १७१)। २ पुं; दुष्ट आचरण (भवि)।

दुरायारि वि [दुराचारिन्] ऊपर देखो (भवि)।

दुराराह वि [दुराराध] जिसका आराधन दुःख से हो सके वह (कप्प)।

दुरारोह वि [दुरारोह] जिस पर दुःख से चढ़ा जा सके वह, दुरध्यास (उत्त २३, गा ४६८)।

दुरालोअ पुं [दे] तिमिर, अन्वकार (दे ५, ४६)।

दुरालोअ वि [दुरालोक] जो दुःख से देखा जा सके, देखने को अशक्य (से ५, ८; कुमा)।

दुरालोयण वि [दुरालोकन] ऊपर देखो, 'दुरालोयणो दुम्महो रत्तनेत्तो' (भवि)।

दुरावह वि [दुरावह] दुर्धर, दुर्बल (पउम ६८, ६)।

दुरास वि [दुरारा] १ दुष्ट आशावाला। २ खराब इच्छावाला (भवि; संति १६)।

दुरासय वि [दुराशय] दुष्ट आशयवाला (सुपा १३१)।

दुरासय वि [दुराश्रय] दुःख से जिसका आश्रय किया जा सके वह, आश्रय करने को अशक्य (परह १, ३; उत्त १)।

दुरासय वि [दुरासद] १ दुष्प्राप्य, दुर्लभ। २ दुर्जन। ३ दुःसह (दस २, ६; राज)

दुरिअ न [दुरित] पाप (पात्र; सुपा २४३)।

दुरिअ न [दे] द्रुत, शीघ्र, जल्दी (पड्)।

दुरिआरि ली [दुरितारि] भगवान् संभवनाथ को शासनदेवी (संति ६)।

दुरिक्ख वि [दुरीक्ष] देखने को अशक्य (कुमा)।

दुरिट्ट न [दुरिट्ट] खराब नक्षत्र (दसनि १, १०५)।

दुरिट्ट न [दुरिट्ट] खराब यजन—याग (दसनि १, १०५)।

दुरुक्क वि [दे] थोड़ा पीसा हुआ, ठीक ठीक नहीं पीसा हुआ (आचा २, १, ८)।

दुरुदुल्ल सक [ध्रम्] १ ध्रमण करना, धूमना। २ गँवाई हुई चीज की खोज में धूमना। वक्र. दुरुदुल्लंत (सुर १५, २१२)।

दुरुत्त न [दुरुक्क] दुष्टोक्ति, दुष्ट वचन (साधं १०१)।

दुरुत्त वि [द्विरुक्क] १ दो बार कहा हुआ, पुनरुक्त। २ दो बार कहने योग्य (रंभा)।

दुरुत्तर वि [दुरुत्तर] १ दुस्तर, दुर्लभ्य (सुप्र १, ३, २)। २ न. दुष्ट उत्तर, अयोग्य जवाब (हे १, १४)।

दुरुत्तर वि [द्वि-उत्तर] दो से अधिक। १ सय वि [शततम] एक सौ दो वाँ, १०२ वाँ (पउम १०२, २०४)।

दुरुत्तार वि [दुरुत्तार] दुःख से पार करने योग्य (सुपा २६७)।

दुरुद्धर वि [दुरुद्धर] जिसका उद्धार कठिनाई से हो वह (सुप्र १, २, २)।

दुरुवणीय वि [दुरुपनीत] जिसका उपनयन दूषित हो ऐसा (उदाहरण) (दसनि १)।

दुरुवयार वि [दुरुपचार] जिसका उपचार कष्ट-साध्य हो वह (तंदु)।

दुरुव्या ली [दूर्वा] वृण-विशेष, दूब (स १२४; उप ३१८)।

दुरुह सक [आ + रुह्] आरुह होना, चढ़ना। वक्रह (पि ११८; १३६)। वक्र.

दुरुहमाण (आचा २, ३, १)। संक्र. दुरुहित्ता, दुरुहित्ताणं, दुरुहेत्ता (भग; महा; पि ५८३; ४८२)।

दुरुह वि [आरुह] अविच्छेद, ऊपर चढ़ा हुआ (शाया १, १; २, १; औप)।

दुरुव वि [दूरूप] १ खराब रूपवाला, कुलूप, कुडोल (ठा ८; आ १६)। २ मलमूत्र का कदम (सुप्रक० चूर्णी गा० ३१७)।

दुरुव वि [दूरूप] अशुचि आदि खराब वस्तु (सुप्र १, ५, १, २०)।

दुरुह देखो दुरुह। संक्र. दुरुहित्तु, दुरुहिया (सुप्र १, ५, २, १५); 'जहा आसा-विणि नावं जाइअवो दुहिया' (सुप्र १, ११, ३०)।

दुरुहण न [आरोहण] अविरोहण, ऊपर चढ़ बैठना (स ५१)।

दुरेह पुं [द्विरेफ] भ्रमर, भौंरा (पात्र; हे १, ६४)।

दुरोअर न [दुरोदर] जुआ, द्यूत (पात्र)।

दुरोदर देखो दुरोअर (कपूर २५)।

दुलंघ देखो दुलंघ (भवि) ।

दुलंभ देखो दुलंभ (भवि) ।

दुलह वि [दुलंभ] १ जिसकी प्राप्ति दुःख से हो सके वह (कुमा; गउड; प्रातू १३४) । २ पुं. एक वणिक-पुत्र (सुपा ६१७) । देखो दुलह ।

दुलि पुंल्लो [दे] कच्छप, कलुया (दे ५, ४२; उप पृ १३५) ।

दुल्ल न [दे] वन्न, कपड़ा (दे ५, ४१) ।

दुल्लंघ वि [दुलंघ] जिसका उल्लंघन कठिनाई से हो सके वह, अलंघनीय (पउम १२, ३८; ४१; हेका ३१; सुर २, ७८) ।

दुल्लंभ वि [दुलंभ] दुराप, दुष्प्राप्य (उप पृ १३६; सुपा १६३; सण) ।

दुल्लख वि [दुल्लख] १ दुर्विज्ञेय, जो दुःख से जाना जा सके, अलक्ष्य (से ८, ५; स ६६; वजा १३६; आ २८) । २ जो कठिनाई से देखा जा सके (कप्प) ।

दुल्लग्ग वि [दे] अवटमान, अयुक्त (दे ५, ४३) ।

दुल्लग्ग न [दुल्लग्ग] दुष्ट लग्न, दुष्ट मूहत्तं (मुद्रा २१५) ।

दुल्लम्भ } देखो दुल्लह, 'कि दुल्लम्भं जणो  
दुल्लम्भ } गुणग्गही' (गा ६७५; निच्च ११) ।

दुल्ललिअ वि [दुल्ललित] १ दुष्ट आदतवाला । २ दुष्ट इच्छावाला; 'विलसइ वेसाण गिहे विनिहयिलासेहि दुल्ललिओ', 'कोलइ दुल्ललिय-वालकोलाए' (सुपा ४८५; ३२८) । ३ व्यसनी, आदतवाला;

'धत्ता सा पुनुकरिसिनिम्मिया तिहुयणेवि तुह जणणी ।

जोइ पनुओ सि तुमं दीगुद्धरणिक्क-  
दुल्ललिओ' (सुपा २१६) ।

४ दुर्विदग्ध, दुःशिक्षित (पाय) । ५ न. दुरारा; दुलंघ वस्तु की अभिलाषा (महावि ६) ।

दुल्लसिआ लो [दे] दासी, नौरतनी (दे ५, ४६) ।

दुल्लह वि [दुलंभ] १ दुराप, जिसकी प्राप्ति कठिनाई से हो वह (त्वप्न ४६; कुमा; लो ५०; प्रातू ११; ४६; ४७) । २ विक्रम

की ग्यारहवीं शताब्दी का गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा (गु १०) । १ राय पुं [राज] वही अर्थ (सार्ध ६६; कुप्र ४) । २ लंभ वि [लम्भ] जिसकी प्राप्ति दुःख से हो सके वह (पउम ३५, ४७; सुर ४, २२६; वै ६८) ।

दुवई लो [द्रुपदी] छन्द-विशेष (स ७१) ।

दुवण न [दावन] उपताप, पीड़न (पएह १, २) ।

दुवण्ण } वि [दुर्वण] खराब रूपवाला (भग;  
दुवन्न } ठा ८) ।

दुवय पुं [द्रुपद] एक राजा, द्रौपदी का पिता (गाया १, १६; उप ६४८ टी) । १ सुया लो [सुता] पाण्डव-पत्नी, द्रौपदी (उप ६४८ टी) ।

दुवयंगया लो [द्रुपदाङ्गजा] राजा द्रुपद की लड़की, द्रौपदी, पाण्डवों की पत्नी (उप ६४८ टी) ।

दुवयंगरुहा लो [द्रुपदाङ्गरुहा] ऊपर देखो (उप ६४८ टी) ।

दुवयण न [दुर्वचन] खराब वचन, दुष्ट उक्ति (पउम ३५, ११) ।

दुवयण न [द्विवचन] दो का बोधक व्याकरण-प्रसिद्ध प्रत्यय, दो संख्या की वाचक विभक्ति (हे १, ६४; ठा ३, ४—पत्र १५८) ।

दुवार } देखो दुआर (हे २, ११२; प्रति  
दुवाराय } ४१; सुपा ४८७); 'एणदुवाराए'  
(कस) । १ पाल पुं [पाल] दरवान, प्रतीहार (सुर १, १३४; २, १४८) । १ वाहा लो [वाहा] द्वार-भाग (आचा २, १, ५) ।

दुवारि वि [द्वारिन्] १ द्वारवाला । २ पुं. दरवान, प्रतीहार; 'वहुपरिवारो पत्तो राय-दुवारो तहि वरणो' (सुपा २६५) ।

दुवारिअ वि [द्वारिक] दरवानावाला, 'अवं-गुयदुवारिए' (कस) ।

दुवारिअ पुं [द्वौवारिक] दरवान, द्वारपाल (हे १, १६०; संक्षि ६; सुपा २६०) ।

दुवालस त्रि.व. [द्वादशान्] बारह, १२ (कप्प; कुमा) । १ मुहिसत्तअ वि [मौहूर्तिक] बारह घुहों का परिमाणवाला (सम २२) । १ विह वि [विध] बारह प्रकार का (सम २१) । १ हा अ [धा] बारह प्रकार (सुर

१४, ६१) । १ वत्त न [वर्त] बारह आवतंवाला वन्दन, प्रणाम-विशेष (सम २१) । दुवालसंग लो [द्वादशाङ्गी] बारह जैन आगम-ग्रन्थ, 'आचारंग' आदि बारह सूत्र-ग्रन्थ (सम १; हे १, २५४) । लो. १ गी (राज) । दुवालसंगि वि [द्वादशाङ्गिन्] बारह श्रंग-ग्रन्थों का जानकार (कप्प) ।

दुवालसम वि [द्वादश] १ बारहवां । २ न. लगातार पाँच दिनों का उपवास (आचा; गाया १, १; ठा ६; सण) । लो. १ भी (गाया १, ६) ।

दुविट्ठ } पुं [द्विपृष्ठ, द्विविष्टप] १ भरत-  
दुविट्ठु } क्षेत्र में इस अवसरपिणी काल में उत्पन्न द्वितीय अर्ध-चक्रो राजा (सम १५८ टी; पउम ५, १५५) । २ भरत-क्षेत्र में उत्पन्न होनेवाला आठवां अर्ध-चक्रो राजा, एक वामु-देव (सम १५४) ।

दुविभज्ज वि [दुर्विभाज्य] जिसका विभाग करना कठिन हो वह—परमाणु (ठा ५, १—पत्र २६६) ।

दुविभव्व देखो दुव्विभव्व (ठा ५, १ टी) ।

दुवियड्ढ वि [दुर्विदग्ध] दुरिशिक्षित, जान-कारी का भूठा अभिमान करनेवाला (उप ८३३ टी) ।

दुवियप्प पुं [दुर्विकल्प] दुष्ट वितर्क (भवि) ।

दुविलय पुं [दुविलक] एक अनार्य देश, 'दुं (१ दु) विलय-लज्जसवुकस—' (पव २७४) ।

दुविह वि [द्विविध] दो प्रकार का (हे १; ६४; नव ३) ।

दुवीस लो [द्वाविंशति] बाईस, २२ (नव २०; पड्) ।

दुव्वण्ण } देखो दुव्वण्ण (पउम ४१, १७;  
दुव्वन्न } पएह १, ४) ।

दुव्वय न [दुव्वत] १ दुष्ट नियम । २ वि. दुष्ट व्रत करनेवाला । ३ व्रत-रहित, नियम-वर्जित (ठा ४, ३; विपा १, १) ।

दुव्वयण न [दुर्वचन] दुष्ट उक्ति, खराब वचन (पउम ३३, १०६; विसे ५२०; उव गा २६०) ।

दुव्वल देखो दुव्वल (महा) ।

दुव्वसण न [दुर्व्यसन] खराब आदत, बुरी आदत (सुपा १८४; ४८६; भवि) ।

दुव्यसु वि [दुर्वसु] अमव्य, खराब द्रव्य (आचा) । मुणि पुं [मुनि] मुक्ति के लिए अयोग्य साधु (आचा) ।

दुव्यह वि [दुर्वह] दुधरं, जिसका वहन कठिनाई से हो सके वह (स १६१; सुर १, १४) ।

दुव्या देखो दुरुव्या (कुमा; सुर १, १३८) ।

दुव्याइ वि [दुर्वादिन्] अप्रियवक्ता (दस ६, २) ।

दुव्याय पुं [दुर्वाक्] दुर्वचन, दुष्ट उक्ति; 'वयणेणवि दुव्याओ न य कायव्वो परस्स पोड्यरो' (पउम १०३, १४३) ।

दुव्याय पुं [दुर्वात्] दुष्ट पवन (णमि ४) ।

दुव्यार वि [दुर्वार] दुःख से रोकने योग्य, अवार्य (स १२, ६३; उप ६८६ टी; सुपा १६७; ४७१; अमि ११६) ।

दुव्यारिअ देखो दुवारिअ = दौवारिक (प्राप्र) ।

दुव्याली व्री [दे] वृक्ष-पंक्ति (प्राप्र) ।

दुव्यास पुं [दुर्वासस्] एक ऋषि (अमि ११८) ।

दुव्विअड वि [दुर्विचृत] परिवान-वर्जित, नग्न, नंगा (ठा ५, २—पत्र ३१२) ।

दुव्विअड्ड वि [दुर्विदग्ध] ज्ञान का भूटा  
दुव्विअड्ड } अभिमान करनेवाला, दुश्शिक्षित  
(पाम्म; गा ६५) ।

दुव्विजाणय वि [दुर्विज्ञेय] दुःख से जानने योग्य, जानने को अशक्य; 'अकुसलपरिणाम-मंदवुद्धिजणदुव्विजाणए' (पणह १, १) ।

दुव्विहपप वि [दुर्विज्ज] दुःख से अजन करते योग्य, कठिनाई से कमाने योग्य (कुप्र २३८) ।

दुव्विणीअ वि [दुर्विनीत] अविनीत; उद्धत (पउम ६६, ३५; काल) ।

दुव्विण्णाय वि [दुर्विज्ञात] असत्य रीति से जाना हुआ (आचा) ।

दुव्विभज देखो दुविभज्ज (राज) ।

दुव्विभव्व वि [दुर्विभाव्य] दुर्लक्ष्य, दुःख से जिसकी आलोचना हो सके वह (ठा ५, १ टी—पत्र २६६) ।

दुव्विभाव वि [दुर्विभाव] ऊपर देखो (वित्ते) ।

दुव्विलसिय न [दुर्विलसित] १ स्वच्छन्दी विलास । २ निकट कार्य; जघन्य काम, नीच काम (उप १३६ टी) ।

दुव्विसह वि [दुर्विपह] अत्यन्त दुःसह, असह्य (गा १४८; सुर ३, १४४; १४, २१०) ।

दुव्विसोअ वि [दुर्विशोध्] शुद्ध करने को अशक्य (पंचा १७) ।

दुव्विहिअ न [दुर्विहित] दुष्ट अनुष्ठान (दत्त १, १२) ।

दुव्विहिय वि [दुर्विहित] १ खराब रीति से किया हुआ, 'दुव्विहियविलासियं विहिणो' (सुर ४, १५; ११, १४३) । २ असुविहित, अशक्य (आव ३) ।

दुव्वोअ वि [दुर्वाह] दुर्वह, दुःख से ढोने योग्य (स ३, ५; ४, ४४; १३, ६३; वजा ३८) ।

दुव्वोअ वि [दे] दुर्घात्य, दुःख से मारने योग्य (स ३, ५) ।

दुसंकड न [दुःस्संकट] विपय विपत्ति (भवि) ।

दुसंचर देखो दुस्संचर (भवि) ।

दुसंथ वि [दुस्संस्थ] दो बार मुनने से ही उसे अच्छी तरह याद कर लेने की शक्तिवाला (पमसं १२०७) ।

दुसन्नपप वि [दुस्संज्ञाप्य] दुर्बोध्य (ठा ३, ४—पत्र १६५) ।

दुसमदुसमा देखो दुस्समदुस्समा (भग ६, ७) ।

दुसमसुसमा देखो दुस्समसुसमा (ठा १) ।

दुसमा देखो दुस्समा (भग ६, ७; भवि) ।

दुसह देखो दुस्सह (हे १, ११५, सुर १२, १३७; १३६) ।

दुसाह वि [दुस्साध] दुःसाध्य, कष्ट-साध्य (पउम ८६, २२) ।

दुसिक्खिअ वि [दुश्शिक्षित] दुर्विदग्ध (पउम २५, २१) ।

दुसुमिण देखो दुस्सुमिण (पडि) ।

दुसुरुह्य न [दे] गले का आभूषण-विशेष (स ७६) ।

दुस्स सक [द्विप्] द्वेष करना । वक्क, दुस्समाण (सुप्र १, १२, २२) ।

दुस्सउण न [दुश्शकुन] अपशकुन (णमि २०) ।

दुस्संचर वि [दुस्संचर] जहाँ दुःख से जाया जा सके, दुर्गम (स २३१, संक्षि १७) ।

दुस्संचार वि [दुस्संचार] ऊपर देखो (सुर १, ६६) ।

दुस्संत पुं [दुष्पन्त] चन्द्रवंशीय एक राजा, शकुन्तला का पति (पि ३२६) ।

दुस्संचोह वि [दुस्संचोध] दुर्बोध्य (आचा) ।

दुस्सअ वि [दुस्साध्य] दुष्कर (सुपा ८; ५६६) ।

दुस्सण्णपप देखो दुस्सण्णप (वृह ४) ।

दुस्सत्त वि [दुस्सत्त्व] दुरात्मा, दुष्ट जीव (पउम ८७, ६) ।

दुस्सन्नपप देखो दुस्सन्नपप (कस) ।

दुस्समदुस्समा व्री [दुष्पमदुष्पमा] काल-विशेष, सर्वाधम काल, अवसर्पिणी काल का छठवाँ और उत्सर्पिणी काल का पहला आरा, इसमें सब पदार्थों के गुराणों की सर्वोत्कृष्ट हानि होती है, इसका परिमाण एककोस हजार वर्षों का है (ठा १; ६; इक) ।

दुस्समदुसुसमा व्री [दुष्पमसुसमा] वेया-लीस हजार कम एक कोटाकोटि सागराधम का परिमाणवाला काल-विशेष, अवसर्पिणी काल का चतुर्थ और उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा (कप्प; इक) ।

दुस्समा व्री [दुष्पमा] १ दुष्ट काल । २ एककोस हजार वर्षों के परिमाणवाला काल-विशेष, अवसर्पिणी-काल का पाँचवाँ और उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा (उप ६४८; इक) ।

दुस्समाण देखो दुस्स ।

दुस्सर पुं [दुःस्वर] १ खराब आवाज, कुत्सित कण्ठ । २ कर्म-विशेष, जिसके उदय से स्वर कर्ण-कट्ट होता है (कम्म १, २७; नव १५) । ३ णाम, णाम न [णामन्] दुःस्वर का कारण-भूत कर्म (पंच; सम ६७) ।

दुस्सल वि [दुश्शल] दुर्विनीत, अविनीत (वृह १) ।

दुस्सह वि [दुस्सह] जो दुःख से सहन हो सके, असह्य (स्वज ७३; हे १, १३; ११५; पड) ।

दुस्सहिय वि [दुस्सोद] दुःख से सहन किया हुआ (सूत्र १, ३, १) ।

दुस्सासन पुं [दुशशासन] दुयौधन का एक छोटा भाई, कौरव-विशेष (चाह १२; बेणी १०७) ।

दुस्साहड वि [दुसंहृत] दुःख से एकत्रित किया हुआ, 'दुस्साहडं वणं हिच्चा बहु संचिणिया रयं' (उत्त ७, ८) ।

दुस्साहिय वि [दौरसाधिक] दुस्साध्य कार्य को करनेवाला (पि ८४) ।

दुस्मिक्ख वि [दुशिक्ष] दुष्ट शिक्षावाला, दुशिक्षित, दुविद्वेष (उप १४६ टी; कुप्र २८३) ।

दुस्सिक्खिअ पि [दुशिक्षित] ऊपर देखो (गा ६०३) ।

दुस्सिज्जा वी [दुशशय्या] खराब शय्या (इस ८) ।

दुस्सिल्लिट्ट वि [दुश्लिष्ट] कुत्सित श्लेषवाला (पि १३६) ।

दुस्सील वि [दुशशील] दुष्ट स्वभाववाला । २ व्यभिचारी (परह १, १; सुपा ११०) । वी. 'ला (प्राप्र) ।

दुस्सुमिण पुंन [दुस्सुप्प] दुष्ट स्वप्न, खराब स्वप्न—सपना (परह १, २) ।

दुस्सुय न [दुशश्रुत] १ दुष्ट शास्त्र । २ वि. श्रुति-कट्ट (परह १, २) ।

दुस्सेज्जा देखो दुस्सिज्जा (उप) ।

दुह सक [दुह] दूहना, दूध निकालना । दुहेज्जह (महा) । कर्म. दुहिज्जइ, दुम्मइ (हे ४, २४५); नवि. दुहिहिइ, दुन्महिइ (हे ४, २४५) ।

दुह सक [दुह] द्रोह करना, द्वेष करना, बैर करना । दुइइ (विचार ६४७) ।

दुह देखो दोह = दोह (राज) ।

दुह देखो दुक्ख = दुःख (हे २, ७२; प्रासू २६; २८; १६२) । अ वि [दु] दुःख देनेवाला, दुःख-जनक (सुपा ४३४) । इ वि [दु] दुःख से पीड़ित (विपा १, १; सुपा ३३८) । इयि वि [दु] दुःख से पीड़ित (श्रीप) । इ पुं [दु] नरक-स्थान (सूत्र १, ५, १) । अ देखो इ (उप ५

७६; ७२८ टी) । फास पुं [स्पशी] दुःख-जनक स्पर्श (णया १, १२) । भागि वि [भागिन्] दुःख में भागीदार (सुपा ४३१) । मच्चु पुं [मृत्थु] अपमृत्यु, अकाल मौत (सुर ८, ५३) । विवाग पुं [विपाक] दुःख रूप कर्म-फल (विपा १, १) । सिज्जा, सेज्जा वी [शय्या] दुःख-जनक शय्या (ठा ४, ३) । विह वि [विह] दुःख-जनक (पउम ८२, ६१; सुर ८, १६२; प्रासू १६६) ।

दुह देखो दुहा (भग ८, ८) ।

दुहअ वि [दु] क्षणित, चूर-चूर किया हुआ (दे ५, ४५) ।

दुहअ वि [दुहंत] खराब रीति से मारा हुआ (आचा) ।

दुहअ वि [दुहंत] दो से मारा हुआ (आचा) ।

दुहअ देखो दुहभग (पइ) ।

दुहओ अ [दुधातस्] दोनों तरफ से, उभय प्रकार से (आचा; ठा ५, ३; कस; भग; पुफ ४७०; आ २७) ।

दुहंड वि [दुहण्ड] दो दुकड़ेवाला; 'किन्चेव विवं (? यो) दुहंडं' (रंभा) ।

दुहग देखो दुहभग (कम्म ३, ३) ।

दुहट्ट वि [दुहट्ट] दुर्निरोध, दुवारि (णया १, ८) ।

दुहण देखो दुघण (परह १, १—पत्र १८) ।

दुहण पुं [दुहण] प्रहरण-विशेष, 'चम्मेट्ट-घणमोदियमोगरवरफलिहजंतपत्थरदुहणतोण-कुवेणी—' (परह १, ३—पत्र ४४) ।

दुहण न [दोहन] दोह, दोहना (परह १, २) ।

दुहदुहग पुं [दुहदुहक] 'दुह-दुह' आवाज (राय १०१) ।

दुहव देखो दूहव (पि ३४०; हे १, ११५ टी) । वी. वीं (पि २३१) ।

दुहा अ [दुधा] दो प्रकार, दो तरफ, उभयया (जी ८; प्रासू १४४) । इअ वि [दु] जिसको दो खण्ड किये गये हों वह (प्राप्र; कुमा) ।

दुहाकर चक [दुधा + क] दो खण्ड करना । कर्म. दुहाइइइ, दुहाकिइइ (प्राप्र; हे १,

६७) । कवक. °कज्जमाण, °किज्जमाण (पि ५४७; ४३६) । संक. °काउं (महा) ।

दुहाव सक [दुहा] छेदना, छेदा करना, खण्डित करना । दुहावइ (हे ४, १२४) ।

दुहाव सक [दुःखय] दुःखी करना, दुभाना, दुखाना (प्राप्ता) ।

दुहावण वि [दुःखन] दुःखी करनेवाला (सण) ।

दुहाविअ वि [दुहिन] खण्डित (प्राप्र; कुमा) ।

दुहाविअ वि [दुःखिन] दुःखी किया हुआ (गउड) ।

दुहि वि [दुःखिन्] दुःखी, व्यथित, पीड़ित (उप ६८६ टी) । वी. °णो (कुमा) ।

दुहिअ वि [दुःखित] पीड़ित, दुःखयुक्त (हे २, १६४; कुमा; महा) ।

दुहिअ वि [दुग्घ] जिसका दोहन किया गया हो वह (दे १, ७) । दुग्घ वि [दोह्य] एक बार दोहने पर फिर भी दोहने योग्य; फिर-फिर दोहने योग्य (दे १, ७; ५, ४६) ।

दुहिआ [दुहित्] लड़की; पुत्री (सुपा १७६; हे ३, ३५) । दुइअ पुं [दुयित] जामाता (सुपा ४५७) ।

दुहिण पुं [दुहिण] ब्रह्मा; चतुर्मुख; 'अवि दुहिणप्पमुहोह आणत्तो तुह अलंघणिएज्जपहावा' (अचु १६) ।

दुहित्त पुं [दोहित्त] लड़की का लड़का, नाती (उप ५७४) ।

दुहित्तिया वी [दोहित्तिका] लड़की की लड़की, नतिनी (उप ५७४) ।

दुहित्तो वी [दोहित्तो] लड़की की लड़की, नतिनी या नातिन; 'पुत्तो तह दुहित्तो होइ य भजा सवक्को य' (धु ११७) ।

दुहिदिआ (शौ) वी [दुहित्त] लड़की, कन्या (प्राक ६५) ।

दुहिल वि [दुहिल] द्रोही; द्रोह करनेवाला (विसे ६६६ टी) ।

दू सक [दू] १ उपताप करना । २ काटना । कर्म. 'दुजंत्तु उच्च' (परह १, २) ।

दूअ पुं [दूत] दूत, संदेश-हारक (प्राप्र; पउम ५३, ४३; ४६) ।

दूआ देखो धूआ (पड)।

दूइ देखो दूई। °पलासय न [°पलाशक] एक चैत्य (उवा)।

दूइज सक [दू] गमन करना, विहरना, जाना। दूइजइ (आचा)। वक्र. दूइजंत, दूइजमाण (औप; णाया १, १; भग; आचा; महा)। हेक्र. दूइजित्तए (कस)।

दूइत्त न [दूतीत्य] दूती का कार्य, दूतीपन (पउम ५३, ४५)।

दूई जो [दूती] ? दूत के काम में नियुक्त की हुई जो, समाचार-हारिणी, कुटी (हे ४, ३६७)। २ जैन साधुओं के लिये भिन्ना का एक दोष (ठा ३, ४—पत्र १६६)। °पिंड पुं [°पिण्ड] समाचार पहुँचाने से मिली हुई भिन्ना (आचा २, १, ६)। देखो दूई।

दूण वि [दून] हेरान किया हुआ; 'हा पिय-वयंस दूवो (? णो) मए सुम' (स. ७६३)।

दूण पुं [दे] हस्ती, हाथी (दे ५, ४४; पड)। दूण (अप) देखो दुष्ण (पिग)।

दूणावेठ वि [दे] ? अशक्य। २ तड़ाग, तलाव, तालाव (दे ५, ५६)।

दूभ अक [दुःख्य] दूभना; दुःखित होना, 'तम्हा पुत्तोवि दूभिज्जा पहिज्ज व दुज्जणो' (था १२)।

दूभग देखो दुब्भग (णाया १, १६—पत्र १६६)।

दूभग न [दौभाग्य] दुष्ट भाग्य, खराब नसीब (उप पृ ३१)।

दूम सक [दू, दावय] परिताप करना, संताप करना। दूमइ, दूमइ (सुपा ८; प्राप्र; हे ४, २३)। कर्म. दूमिज्जइ (भवि)। वक्र. दूमैत (से १०, ६३)। कवक्र. दूमिज्जंत (सुपा २६६)।

दूम देखो दुम = धवल्य (हे ४, २४)।

दूमक वि [दावक] उपताप-जनक, पीड़ा-दूमग जनक (पएह १, ३; राज)।

दूमण वि [दावक] उपताप करनेवाला (सूत्र १, २, २, २७)।

दूमण न [दिवन, दावन] परिताप, पीड़न (पएह १, १)।

दूमण न [धवलन] सफेद करना (वव ४)।

दूमण देखो दुम्मण = दुर्मनस् (सूत्र १, २, २)।

दूमणाइअ वि [दुर्मनायित] जो उदास हुआ हो, उद्विग्न-मनस्क (नाट—मालती ६६)।

दूमिअ [दून, दावित] संतापित, पीड़ित (सुपा १०; १३३; २३०)।

दूमिअ वि [धवलन] सफेद किया हुआ (हे ४, २४; कप्य)।

दूयाकार न [दे] कला-विशेष (स ६०३)।

दूर न [दूर] ? अनिकट, असमीप; 'रुसेव जस्स कित्तो गया दूर' (कुमा)। २ अतिशय, अत्यन्त; 'दूरमहरं उंसते' (कुमा)। ३ वि. दूरस्थित, असमीपवर्ती (सूत्र १, २, २)। ४ व्यवहित, अन्तरित (गउड)। °ग वि [°ग] दूरवर्ती, असमीपस्थ (उप ६४८ टी; कुमा)। °गइ, °गइअ वि [°गतिक] ?

दूर जानेवाला। सौचर्म आदि देवलोक में उत्पन्न होनेवाला (ठा ८)। °तराग वि [°तर] अत्यन्त दूर (पएह १७)। °त्य वि [°स्थ] दूरस्थित, दूरवर्ती (कुमा)। °भविय पुं [°भव्य] दीर्घ काल में मुक्ति को प्राप्त करने की योग्यतावाला जीव (उप ७२८ टी)। °य देखो °ग (सूत्र १, ५, २)।

°वत्ति वि [°वतिन्] दूर में रहनेवाला (पि ६४)। °लइय वि [°लयिक] मुक्ति-गामी (आचा)। °लय पुं [°लय] ? दूरस्थित आश्रय। २ मोल। ३ मुक्ति का मार्ग (आचा)।

दूरंगइअ देखो दूर-गइअ (औप)।

दूरंतरिअ वि [दूरान्तरित] अत्यन्त-व्यवहित (गा ६५८)।

दूरचर वि [दूरचरं] दूर रहनेवाला (धम्मो १०)।

दूराय सक [दूराय] दूरस्थित की तरह मालूम होना, दूरवर्ती मालूम पड़ना। वक्र. दूरायमाण (गउड)।

दूरीकय वि [दूरीकृत] दूर किया हुआ (था २८)।

दूरीहूअ वि [दूरीभूत] जो दूर हुआ हो (सुपा १५८)।

दूरुल वि [दूरवत्] दूरस्थित, दूरवर्ती (आव ४)।

दूलह देखो दुल्लह (संकि १७)।

दूस अक [दुप्] दूषित होना, विकृत होना। दूसइ (हे ४, २३५; संकि ३६)।

दूस सक [दूष्य] दोषित करना, दूषण—दोष लगाना। दूसइ (भवि), दूसेइ (वृह ४)।

दूस न [दूष्य] ? वक्र, कपड़ा (सम १५१; कप्य)। २ तंबू, पट-कुटी (दे ५, २८)।

°गणि पुं [°गणिन्] एक जैन आचार्य (एदि)। °मित्त पुं [°मित्त] मौर्यवंश के नाश होने पर पाटलिपुत्र में अभिपिक्त एक राजा (राज)। °हर न [°गृह] तंबू, पट-कुटी (स २६७)।

दूसअ वि [दूपक] दोष प्रकट करनेवाला (वज्जा ६८)।

दूसग वि [दूपक] दूषित करनेवाला (सुपा २७५; सं १२४)।

दूसग वि [दूपक] दूषण निकालनेवाला, दोष देखनेवाला (धर्मवि ८५)।

दूसण न [दूपण] दूषित करना (अज्क ७३)।

दूसण न [दूपण] ? दोष, अपराध। २ कलंक, दाग (तंदु)। ३ पुं. रावण की मौसी का लड़का (पउम १६, २५)। ४ वि. दूषित करनेवाला (स ५२८)।

दूसम वि [दुष्पम] ? खराब, दुष्ट। २ पुं. काल-विशेष, पाँचवाँ आरा; 'दूसमे काले' (सट्टि १५६)। °दूसमा देखो दुस्सम-दुस्समा (सम ३६; ठा १; ६)। °सुसमा देखो दुस्समसुसमा (ठा २, ३; सम ६४)।

दूसमा देखो दुस्समा (सम ३६; उप ८३३ टी; सं ३४)।

दूसर देखो दुस्सर (राज)।

दूसल वि [दें] दुर्भाग, अभागा (दे ५, ४३; पड)।

दूसह देखो दुस्सह (हे १, १३, ११५)।

दूसहणीअ वि [दुस्सहनीय] दुस्सह, असह्य (पि ५७१)।

दूसासण देखो दुस्सासण (हे १, ४३)।

दूसाहिअ वि [दौस्साधिक] दुसाध जाति में उत्पन्न, अस्पृश्य जाति का (प्राक १०)।

दूसि पुं [दूपिन्] नपुंसक का एक भेद; 'दोमुवि वेएमुं सज्जए दूसी' (वृह ४)।



दूसिअ वि [दूपित] १ दूपण-युक्त, कलङ्क-युक्त (महा; भवि) । २ पुं. एक प्रकार का नपुंसक (वृह ४) ।

दूसिआ व्री [दूपिका] आँख का मेल (कुमा) ।

दूसुमिण देखो दुस्सुमिण (कुमा) ।

दूहअ वि [दुःखक] दुःख-जनक, 'असइएँ दूहओ चंदो' (वज्जा ६८) ।

दूहट्ट वि [दे] लज्जा से उद्विग्न (दे ५, ४८) ।

दूहय देखो दोधअ (तिरि ६६१) ।

दूहल वि [दे] दुभंग, मन्दभाग्य (दे ५, ४३) ।

दूहव देखो दुभग (हे १, ११५; १६२; कुमा; सुपा ५६७; भवि) ।

दूहव सक [दुःखय] दुःखाना, दुःखी करना । दूहवेइ (तिरि १६७) ।

दूहाविअ वि [दुःखित] दुःखी किया हुआ हुआया हुआ; 'कि केणवि दूहविया' (कुम्मा १२) ।

दूहिअ वि [दुःखित] दुःख-युक्त (हे १, १३; संज्ञि १७) ।

दे अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय । १ संमुख-करण । २ सखी को आमन्त्रण (हे २, १६२) ।

दे अ [दे] पाद-पूरक अव्यय (प्राकृ ८१) ।

देअ देखो देव (मुद्रा १६१; चंड) ।

देअर देखो दिअर (कुमा; काप्र २२४; महा) ।

देअराणी व्री [देवरपत्नी] देवराणी, पति के छोटे भाई की वहू (दे १, ५१) ।

देई देखो देवी (नाट—उत्त १८) ।

देउल न [देवकुल] देव-मन्दिर (हे १; १७१; कुमा) । 'णाह पुं [नाथ] मन्दिर का स्वामी (पड) । 'वाडय पुंन [पाटक] मेवाड़ का एक गाँव; 'दिउलवाडयपत्तं तुट्टण-सीलं च अइमहणं' (वज्जा ११६) ।

देउलिअ वि [देवकुलिक] देव स्थान का परिपालक (श्रीघ ४० भा) ।

देउलिआ व्री [देवकुलिका] छोटा देव-स्थान (उप पृ ३६६; ३२० टी) ।

देत देखो दा = दा ।

देवस सक [दृश] देखना; भ्रवलोकांन करना । देवइ (हे ४, १८१) । वक्र.

देवसंत (अभि १४१) । संक. देविसअ (अभि १६६) ।

देवखालिअ वि [दर्शित] दिखाया हुआ, बतलाया हुआ (सुर १, १५२) ।

देख (अप) देखो देखव । देखइ (भवि) ।

देइ देखो दिइ = इष्ट (प्रति ४०) ।

देण्ण देखो दइण्ण (शाया १, १—पत्र ३३) ।

देपाल पुं [देवपाल] एक मंत्री का नाम (ती २) ।

देप्प देखो दिप्प = दोष । वक्र.—देप्पमाण (कुप्र ३४४) ।

देय } देखो दा = दा ।  
देयमाण }

देर देखो दार = द्वार (हे १, ७६; २, १७२; दे ६, ११०) ।

देव उभ [दिव] १ जीतने की इच्छा करना । २ पण करना । ३ व्यवहार करना । ४ चाहना । ५ आज्ञा करना । ६ अव्यक्त शब्द करना । ७ हिसा करना । देवइ (संज्ञि ३३) ।

देव पुंन [देव] १ अमर, सुर, देवता; 'देवाणि, देवा' (हे १, ३४; जी १६, प्रात् ८६) । २ मेव । ३ आकाश । ४ राजा, नरपति; 'तहेव मेहं व नहं व माणवं न देव देवत्ति गिरं वएज्जा' (दस ७, ५२; नास ६६) । ५ पुं. परमेश्वर, देवाविदेव (भग १२, ६; दंस ५; सुपा १३) । ६ साधु, मुनि, ऋषि (भग १२, ६) । ७ द्वीप-विशेष । ८ समुद्र-विशेष (परण १५) । ९ स्वामी, नायक (आचु ५) । १० पूज्य, पूजनीय (पंचा १) । उत्त वि [उत्त] देव से बोया हुआ । २ देव-कृत; 'देवउत्ते अयं लोण' (सुअ १, १, ३) । उत्त वि [गुप्त] १ देव से रक्षित (सुअ १, १, ३) । २ ऐश्वर्य क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (स १५४) । उत्त पुं [पुत्र] देव-पुत्र (सुअ १, १, ३) । उल न [कुल] देव-गृह, देव-मन्दिर (हे १, २७१; सुपा २०१) । उलिया व्री [कुलिका] देहरी, छोटा देव-मन्दिर (कुप्र १४४) । कन्ना व्री [कन्या] देव-पुत्री (शाया १, ८) । कहकहय पुं [कहकहक] देवताओं का कोलाहल (जीव ३) । किच्चिस

पुं [किच्चिस] चाण्डाल-स्थानीय देव-जाति (ठा ४, ४) । किच्चिसिय पुं [किच्चिस-पिक] एक अथम देव-जाति (भग ६, ३३) । किच्चिसीया व्री [किच्चिसीया] देवो देवकिच्चिसिया (वृह १) । कुरा व्री [कुरा] श्रेय विशेष, वर्ष-विशेष (इक) । कुरु पुं [कुरु] वही अर्थ (परह १, ४; सम ७०; इक) । कुल देखो उल (पि १६८; कप्प) । कुलिय पुं [कुलिक] पुजारी (आवम) । कुलिया देखो उलिया (कुप्र १४४) । गइ व्री [गति] देवयोनि (ठा ५, ३) । गणिया व्री [गणिका] देव-वेर्या, अम्परा (शाया १, १६) । गिह न [गृह] देव-मन्दिर (सुपा; १३; ३४८) । गुत्त पुं [गुप्त] १ एक परिव्राजक का नाम (श्रीप) । २ एक भावी जिनदेव (तित्त्व) । चंद पुं [चन्द्र] एक जैन उपासक का नाम (सुपा ६३२) । सुप्रसिद्ध श्री हेमचन्द्राचार्य के गुह का नाम (कुप्र १६) । चय वि [चिक] १ देव की पूजा करनेवाला । २ पुं. मन्दिर का पुजारी (कुप्र ४४१; ती १५) । च्छंदग न [च्छन्दक] जिनदेव का आसन (जीव ३; राय) । जस पुं [चयस्] एक जैन मुनि (अंत ३; सुपा ३४२) । जाण न [चान] देव का वाहन (पंचा २) । जिण पुं [जिन] एक भावी जिनदेव का नाम (पव ७) । डिह देखो देविडिह (ठा ३; ३; राज) । गाअअ पुं [नायक] नीचे देखो (अचु ३७) । गाह पुं [नाथ] १ इन्द्र । २ परमेश्वर, परमात्मा (अचु ६७) । तम न [तमस्] एक प्रकार का अन्व-कार (ठा ४, २) । थुइ, थुइ व्री [स्तुति] देव का गुणानुवाद (प्राप्र) । दत्त पुं [दत्त] व्यक्तिवाचक नाम (उत्त ६; पिड; पि ५६६) । दत्ता व्री [दत्ता] व्यक्ति-वाचक नाम (विपा १, १; ठा १०) । दव्य न [द्रव्य] देव-संबन्धी द्रव्य (कम्म १, ५६) । दार न [द्वार] देव-गृह विशेष का पूर्वाय द्वार, सिद्धायतन का एक द्वार (ठा ४, २) । दारु पुं [दारु] वृक्ष-विशेष, देवदार का पेड़ (पउम ५३, ७६) । दाली व्री [दाली] वनस्पति-विशेष, रोहिणी

(परण १७—पत्र ५३०) । °दिण्ण, °दिन्न पुं [°दत्त] व्यक्ति-नाचक नाम, एक साथवाह-पुत्र (राज; याया १, २—पत्र ८३) । °द्वीव पुं [°द्वीप] द्वीप-विशेष (जीव ३) । °दूस न [°दूष्य] देवता का वक्र, दिव्य वक्र (जीव ३) । °देव पुं [°देव] १ परमेश्वर, परमात्मा, (सुपा ५००) । २ इन्द्र, देवों का स्वामी (आचा ५) । °नट्टिया ली [°नर्तिका] नाचनेवाली देवी, देव-नटी (अजि ३१) । °नयरी ली [°नगरी] अमरावती, स्वर्ग-पुरी (पउम ३२, ३५) । °पडिक्खोभ पुं [°प्रति-क्षोभ] तमस्काय, अन्वकार (भग ६, ५) । °पल्लिक्खोभ पुं [°परिक्षोभ] कृष्ण-राजि (भग ६, ५) । °पण्वय पुं [°पर्वत] पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) । °पपसाय पुं [°प्रसाद] राजा कुमारपाल के पितामह का नाम (कुप्र ५) । °फलिह पुं [°परिघ] तमस्काय, अन्वकार (भग ६, ५) । °भद पुं [°भद्र] १ देव-द्वीप का अधिष्ठाता देव (जीव ३) । २ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य (साधं ८३) । °भूमि ली [°भूमि] १ स्वर्ग, देवलोक । २ मरण; मृत्यु; 'अह अन्त्या य चिद्धी विरदेवो देवभूमिमणुपत्तो' (सुपा ५८२) । °महाभद पुं [°महाभद्र] देव-द्वीप का अधिष्ठाता देव (जीव ३) । °महावर पुं [°महावर] देव-नामक समुद्र का अधिष्ठातक देव-विशेष (जीव ३; इक) । °रइ पुं [°रति] एक राजा (भत १२२) । °रक्ख पुं [°रक्ष] राजस-वंशीय एक राज-कुमार (पाउम ५, १६६) । °रण्ण न [°रण्य] तमस्काय, अन्वकार (ठा ४, २) । °रमण न [°रमण] १ सौभाग्यनी नगरी का एक उद्यान (विपा १, ४) । २ रावण का एक उद्यान (पउम ४६, १५) । °राय पुं [°राज] इन्द्र (पउम २, ३८; ४६, ३६) । °रिसि पुं [°रिषि] नारद मुनि (पउम ११, ६८; ७८, १०) । °ल्लोअ, °ल्लोग पुं [°ल्लोक] १ स्वर्ग (भग; याया १, ४; सुपा ६१५; आ १६) । २ देव-जाति; 'कडविहा एं भंते देवलोगा परणत्ता ? गोयमा चरव्विहा देवलोगा परणत्ता, तं जहा—भवणत्तो, वाणमंतरा, जोइसिया, वेमाणिया' (भग ५, ६) ।

°लोगगमण न [°लोकगमन] स्वर्ग में उत्पत्ति; 'पाओवगमणाइं देवलोगगमणाइं कुसु-लपचायाया पुणो वोहिलाभा' (सम १४२) । °वर पुं [°वर] देव-नामक समुद्र का अधिष्ठा-यक एक देव (जीव ३) । °वहू ली [°वधू] देवांगना, देवी (अजि ३०) । °सणत्ती ली [°संज्ञति] १ देव-कृत प्रतिवोध । २ देवता के प्रतिवोध से ली हुई देवी (ठा १०—पत्र ४७३) । °संणियाय पुं [°सन्निपात] १ देव-समागम (ठा ३, १) । २ देव-समूह । ३ देवों की भीड़ (राय) । °सम्म पुं [°शर्मन्] १ इस नाम का एक ब्राह्मण (महा) । २ ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३) । °साल न [°शाल] एक नगर का नाम (उप ७६८ टी) । °सुंदरी ली [°सुन्दरी] देवांगना, देवी (अजि २८) । °सुय देखो °स्सुय (पत्र ७) । °सेण पुं [°सेन] १ शतद्वार नगर का एक राजा, जिसका दूसरा नाम महापन्न था (ठा ६—पत्र ४५६) । २ ऐरवत क्षेत्र के एक जिनदेव (पत्र ७) । ३ भरत-क्षेत्र के एक भावी जिनदेव के पूर्वभव का नाम (ती १६) । ४ भगवान् नेमिनाय का एक शिष्य, एक अन्तकृद् मुनि (अंत) । °स्स न [°स्व] देव-द्रव्य, जिन-मन्दिर-संघन्वी घन (पंचा ५) । °स्सुय पुं [°श्रुत] भरत-क्षेत्र के छठवें भावी जिन-देव (सम १५३) । °हर न [°गृह] देव-मन्दिर (उप ४११) । °इदेव पुं [°तिदेव] अहंन् देव, जिन भगवान् (भग १२, ६) । °णंद पुं [°निन्द] ऐरवत क्षेत्र में आगामी उत्सर्पिणी काल में उत्पन्न होनेवाले चौबीसवें जिनदेव (सम १५४) । °णंदा ली [°निन्दा] १ भगवान् महावीर की प्रथम माता (आचा २, १५, १) । २ पक्ष की पनरहवीं रात्रि का नाम (कम्प) । °णुपिपय पुं [°नुप्रिय] भद्र, महाशय, महानुभाव, सरल-प्रकृति (औप; विपा १, १; महा) । °यारिअ पुं [°चार्य] एक सुप्रसिद्ध जैन आचार्य (गु ७) । °रन्न देखो °रण्ण (भग ६, ५) । २ देवों का झोड़ा-स्थान (जो ६) । °ल्य पुं [°लय] स्वर्ग (उप २६४ टी) । °हिदेव पुं [°धिदेव] परमेश्वर, परमात्मा, जिनदेव (सम ४३; सं

५) । °हिद्वइ पुं [°धिपति] इन्द्र, देव-नायक (सुप्र १, ६) । देव पुं [देव] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३३) । °कुरु ली [°कुरु] भगवान् मुनि-सुव्रत स्वामी की दीक्षा-शिषिका का नाम (विचार १२६) । °च्छंदय पुं [°च्छन्दक] कमानदार धूमटवाला दिव्य आसन-स्थान (आचा २, १५, ५) । °तमिस्स पुं [°तमिस्स] अन्वकार-राशि, तमस्काय (भग ६, ५—पत्र २६८) । दिन्ना ली [°दत्ता] भगवान् वासुपूज्य की दीक्षा-शिषिका (विचार १२६) । °पल्लिक्खोभ पुं [°परिक्षोभ] कृष्णराजि, कृष्णवरुण पुद्गलों की रेखा (भग ६, ५—पत्र २७०) । °रमण पुं [°रमण] नन्दीधर द्वीप के मध्य में पूर्व-दिशा स्थित एक अंजनगिरि (पत्र २६६ टी) । °वूह पुं [°व्यूह] तमस्काय (भग ६, ५—पत्र २६८) । देव देखो दइव (उप ३५६ टी; महा; हे १, १५३ टी) । °न्नु वि [°ज्ञ] जौतिष-शास्त्र का जानकार (सुपा २०१) । °पर वि [°पर] भाग्य पर ही श्रद्धा रखनेवाला (पड्) । देवइ ली [°देवकी] श्रीकृष्ण की माता, आगामी उत्सर्पिणी काल में होनेवाले एक तीर्थकर-देव का पूर्व भव (पउम २०, १८५; सम १५२; १५४) । देखो देवकी । देवउप्फ न [°दे] पत्र पुष्प, पका हुआ फल (दे ५, ४६) । देवं देखो दा = दा । देवंग न [°दे-दिव्याङ्ग] देवदूष्य वक्र (उप ७३८) । देवंगण न [°देवाङ्गण] स्वर्ग, 'दिवलं गहिउं च देवंगणे रमइ' (सम्मत १६०) । देवंधकार देखो देवंधगार (भग ६, ५—पत्र २६८) । देवंधगार पुं [°देवान्धकार] तिमिर-निचय, अन्वकार का समूह (ठा ४, २) । देवकित्विस पुं [°देवकित्विप] एक अथम देव जाति (ठा ४, ४—पत्र २७४) । देवकित्विसिया ली [°देवकित्विषिकी] भावना-विशेष, जो अथम देव-योनि में उत्पत्ति का कारण है (ठा ४, ४) ।

देवकी देखो देवई । °पंदण पुं [°नन्दन] श्रीकृष्ण (वेणी १८३) ।  
 देवय वि [देव्य] देव-सम्बन्धी (पव १२५) ।  
 देवय न [देवत] देव, देवता (सुपा १५७) ।  
 देवय देखो देव = देव (महा; राया १, १८) ।  
 देवया, वी [देवता] १ देव, अमर (अभि ११७; अणु) । २ परमेश्वर परमात्मा (पंचा १) ।  
 देवर देखो दिअर (हे १; १८६; सुपा ४८५) ।  
 देवराणी देखो देअराणी (दे १, ५१) ।  
 देवसिय वि [देवसिक] दिवस-संबन्धी (ओष ६२६; ६३६; सुपा ४१६) ।  
 देवसिआ वी [देवसिका] एक पतिव्रता वी, जिसका दूसरा नाम देवसेना या (पुष्प ६७) ।  
 देविद पुं [देवेन्द्र] १ देवों का स्वामी, इन्द्र (हे ३, १६२; राया; १, ८; प्रासू १०७) ।  
 २ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य और ग्रन्थकार (भाव २१) ।  
 ३ सुरि पुं [सुरि] एक प्रसिद्ध जैन-चार्य और ग्रन्थकार (कम्म ३, २४) ।  
 देविन्द्रय पुं [देवेन्द्रक] देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १२८) ।  
 देविडिड वी [देवट्टि] १ देव का वैभव ।  
 २ पुं. एक सुप्रसिद्ध जैन आचार्य और ग्रन्थकार (कम्म) ।  
 देविय वि [दैविक] देव-संबन्धी (सुर ४, २३६) ।  
 देविल पुं [देविल] एक प्राचीन ऋषि (सूत्र १, ३, ४, ३) ।  
 देवी वी [देवी] १ देव-वी (पंचा २) । २ रानी, राज-पत्नी (विपा १, १; ५) । ३ दुर्गा, पार्वती (कम्म) । ४ सातवें चक्रवर्ती और प्रठारहवें जिन-देव की माता (सम १५१; १५२) । ५ दशवें चक्रवर्ती की अग्र-महिषी (सम १५२) । ६ एक विद्याधर-कन्या (पउम ६, ४) ।  
 देवीकय वि [देवीकृत] देवी से बनाया हुआ, अणमिसणअणो सखलो जीए देवीकयो लोभो (गा ५६२) ।  
 देवुकलिआ वी [देवोत्कलिआ] देवों की ठठ, देवों की मीड़ (ठा ४, ३) ।  
 देवेसर पुं [देवेश्वर] इन्द्र, देवों का राजा (कुमा) ।

देवोद पुं [देवोद] समुद्र-विशेष (जोव ३; इक्र) ।  
 देवोववाय पुं [देवोवपात] भरतक्षेत्र में आगामी उत्सर्पणी काल में होनेवाले तेईसवें जिन-देव (सम १५४) ।  
 देव्य देखो दिव्य = दिव्य (उप ६८६ टी) ।  
 देव्य देखो दइव (गा १३२; महा; सुर ११, ४; अभि ११७); 'एसो य देवो एणम अणाराहणीओ विणएण' (स १२८) ।  
 °ज्ज, °ण्ण, °ण्णु वि [°ज्ज] जोतिषी, ज्योतिष-शास्त्र की जाननेवाला (पड; कम्म) ।  
 देव्यजाणुअ } देखो देव्य-ज्ज (प्राकृ १८) ।  
 देव्यणुअ }  
 देस पुं [देश] एक सौ हाथ परिमित जमीन, 'हत्वसयं खलु देसो' (पिंड ३४४) ।  
 °देस पुं [°देश] सौ हाथ से कम जमीन (पिंड ३४४) ।  
 °राग पुं [°राग] देश-विशेष (आचा २, ५, १, ७) ।  
 देस सक [देशय] १ कहना; उपदेश देना ।  
 २ वतलाना । वक्र. देसयंत (सुपा ४८५; सुर १५, २४८) । संक्र. देसित्ता (हे १, ८८) ।  
 देस पुं [देश] १ अंश; भाग (ठा २, २; कम्म) । २ देश, जनपद (ठा ५, ३; कम्म; प्रासू ४२) । ३ श्रवसर (विसे २०६३) ।  
 ४ स्थान, जगह (ठा ३, ३) ।  
 °कहा वी [°कथा] जनपद-वार्ता (ठा ४, २) ।  
 °काल देखो °याल (विसे २०६३) ।  
 °जइ पुं [°यति] श्रावक, उपासक, जैन गृहस्थ (कम्म २ टी; आउ) ।  
 °ण्णु वि [°ज्ज] देश की स्थिति को जाननेवाला (उप १७६ टी) ।  
 °भासा वी [°भापा] देश की बोली (वृह ६) ।  
 °भूसण पुं [°भूपण] एक केवलज्ञानी महर्षि (पउम ३६, १२२) ।  
 °याल पुं [°काल] प्रसंग, श्रवसर, योग्य समय (पउम ११, ६३) ।  
 °राय वि [°राज] देश का राजा (सुपा ३५२) ।  
 °वगासिय देखो °वगासिय (सुपा ५६६) ।  
 °विरइ वी [°विरति] श्रावक वर्ग, जैन गृहस्थ का व्रत, अणुव्रत, हिंसा आदि का आंशिक त्याग (पंचा १०) ।  
 °विरय वि [°विरत] श्रावक, उपासक । २ न. पांचवाँ

गुण-स्थानक (पव २२) ।  
 °विराहय वि [°विरावक] व्रत आदि में आंशिक रूपण लगानेवाला (मग ८, ६) ।  
 °विराहि वि [°विराधिन्] वही अर्थ (राया १, ११—पत्र १७१) ।  
 °वगास न [°वकाशा] श्रावक का एक व्रत (सुपा ५६२) ।  
 °वगासिय न [°वकाशिक] वही अर्थ (ओष; सुपा ५६६) ।  
 °हिव पुं [°धिप] राजा (पउम ६६, ५३) ।  
 °हिवइ पुं [°धिपति] राजा (वृह ४) ।  
 देस देखो वेस = द्वेष (रयण ३६) ।  
 देसंतरिअ वि [देशान्तरिक] भिन्न देश का, विदेशी (उप १०३१ टी; कुप्र ४१३) ।  
 देसग देखो देसय (द्र २६) ।  
 देसण न [देशान] कथन, उपदेश, प्रहृषण (दं १) । २ वि. उपदेशक, प्रहृषक । वी. °णी (वत ७) ।  
 देसणा वी [देशाना] उपदेश, प्रहृषण (राज) ।  
 देसय वि [देशक] १ उपदेशक, प्रहृषक (सम १) । २ दिखलानेवाला, वतलानेवाला (सुपा १८६) ।  
 देसराग वि [देशराग] 'देशराग' देश में बना हुआ, 'देसरागाणि वा' (आचा २, ५, १, ७) ।  
 देसि वि [द्वेषिन्] द्वेष करनेवाला (रयण ३६) ।  
 देसि } वि [देशिन्] १ अंशी, आंशिक, देसिअ } भागवाला (विसे २२४७) । २ दिखलानेवाला । ३ उपदेशक (विसे १४२५, भास २८) ।  
 देसिअ वि [देश्य, दैशिक] देश में उत्पन्न, देश-संबन्धी (उप ७६८ टी; अणु ६) ।  
 °सद् पुं [°शब्द] देशीभाषा का शब्द (वजा ६) ।  
 देसिअ वि [देशित] १ कथित, उपदिष्ट । २ उपदेशित (दं २२; प्रासू ५२; १३३; मवि) ।  
 देसिअ वि [देशिक] वृहत्क्षेत्र-व्यापी, विस्तीर्ण (आचा २, १, ३, ७) ।  
 देसिअ वि [देशिक] १ पथिक, मुसाफिर (पउम २४, १६; उप पु ११५) । २ उप-देष्टा, गुरु (विसे १४२५) । ३ प्रोपित, प्रवास

में गया हुआ (सुर १०, १६२) । °सहा ली  
[°सभा] धर्मशाला (उप पृ ११५) ।  
देसिअ देखो देवसिअ; 'पडिकमे देसिअं सव्वं'  
(पडि; आ ६) ।  
देसिअव वि [देशितवत्] जिसने उपदेश  
दिया हो वह (सुप्र १, ६, २४) ।  
देसिअह देखो देसिअ = देश्य (बृह ३) ।  
देसी ली [देशी] भाषाविशेष, अत्यन्त प्राचीन  
प्राकृत भाषा का एक भेद (दे १, ४) ।  
°भासा ली [°भाषा] वही अर्थ (आया १,  
१; श्रौप) ।  
देसूण वि [देशोन] कुछ कम, अंश की कमी-  
वाला (सम २, १०३; दं २८) ।  
देस्स वि [दृश्य] १ देखने योग्य । २ देखने  
को शक्य (स १६६) ।  
देह देखो देवख । देहई, देहए (उत्त १६; ६;  
पि ६६) । वक्र. देहमाण (भग ६, ३३) ।  
देह पुंन [देह] १ शरीर, काय (जी २८; कुप्र  
१५३ प्रासू ६५) । २ पुं. पिशाच-विशेष  
(इक; पण १) । °रय न [°रत] मैथुन  
(वज्रा १०८) ।  
देह्वलिया ली [देह्वलिका] भिक्षा-वृत्ति,  
मीस की आजीविका (आया १, १६—पत्र  
१६६) ।  
देहणी ली [दे] पंक, कंदम, कादा, कादो  
(दे ५, ४८) ।  
देहरय (अप) न [देवगृहक] देव-मन्दिर  
(वज्रा १०८) ।  
देहली ली [देहली] चौखट, द्वार के नीचे की  
लकड़ी (गा ५२५; दे १, ६५; कुप्र १८३) ।  
देहि पुं [देहिन्] आत्मा, जीव (स १६५) ।  
देहुर (अप) न [देवकुल] देव-स्थान, मन्दिर  
(भवि) ।  
दो अ [द्विधा] दो प्रकार से, दो तरह (सुपा  
२३३; ३१२) ।  
दो वि. व. [द्वि] दो, उभय, युग्म (हि १;  
६४) ।  
दो पुं [दोस्] हाथ, बाहु (विक्र ११३;  
रंभा; कप्प) ।  
दोअई ली [द्विपदी] छन्द-विशेष (पिंग) ।  
दोआल पुं [दे] वृषभ, बैल (दे ५, ४६) ।

दोइ देखो दो = द्विवा (बृह ३) ।  
दोवुर [दे] देखो दोवुर (पड्) ।  
दोकारिय वि [द्विक्रिय] एक ही समय में दो  
क्रियाओं के अनुभव को माननेवाला (ठा ७) ।  
दोकर देखो दुकर (भवि) ।  
दोक्खर पुं [द्वि-अक्षर] परड, नपुंसक  
(बृह ४) ।  
दोखंड देखो दुखंड (भवि) ।  
दोखंडअ वि [द्विखण्डित] जिसके दो टुकड़े  
किए गए हों वह (भवि) ।  
दोगंछि वि [जुगुप्सिन्] घृणा करनेवाला  
(पि ७४) ।  
दोगच्च न [दौर्गत्य] १ दुर्गति, दुर्दशा (पंच  
४) । २ वास्त्रिय, निर्वनता (सुपा २३०) ।  
दोगुंछि देखो दोगच्छि (पि २१५) ।  
दोगुंद्य पुंन [दोगुन्दक] एक देव-विमान  
(देवेन्द्र १४५) ।  
दोगुंद्य पुं [दौर्गुन्दक] उत्तम-जातीय देव-  
विशेष (सुपा ३३) ।  
दोग्ग न [दे] युग्म, युगल (दे ५, ४६; पड्) ।  
दोग्गइ देखो दुग्गइ (सुर ८, १११) । °कर  
वि [°कर] दुर्गति-जनक (पउम ७३, १०) ।  
दोग्गच्च देखो दोगच्च (गा ७६) ।  
दोग्घट्ट } पुं [दे] हाथी, हस्ती (पि ४३६;  
दोग्घोट्ट } पड्; पात्र; महा; लहुअ ४; स  
दोघट्ट } ४६१) ।  
दोचूड पुं [द्विचूड] विद्यावर वंश के एक  
राजा का नाम (पउम ५, ४५) ।  
दोच्च वि [द्वितीय] दूसरा (सम २, ८; विपा  
१, २) ।  
दोच्च न [दौत्य] दूतपन, दूत-कर्म (आया १,  
८; गा ८४) ।  
दोच्चं अ [द्विस्] दो बार, दो वक्त; एवं  
च निसामिता दोच्चं तच्चं समुल्लवंतस्स' (सुर  
२, २६) ।  
दोचंग न [द्वितीयाङ्ग] १ दूसरा अंग । २  
पकाया हुआ शाक (बृह १) । ३ तीमन,  
कड़ी (श्रीष २६७ भा) ।  
दोजीह पुं [द्विजिह्व] १ दुर्जन । २ साँप  
(सुर १, २०) ।  
दोज्ज वि [दोह्य] दोहने योग्य (आचा २,  
४, २) ।

दोण पुं [द्वोण] १ धनुर्वेद के एक सुप्रसिद्ध  
आचार्य, जो पराएव और कौरवों के गुरु थे  
(आया १, १६; वेणी १०४) । २ एक  
प्रकार का परिमाण (जो २) । °मुह न  
[°मुख] नगर, जल और स्थल के मार्गवाला  
शहर (पएह १, ३; कप्प; श्रौप) । °मेह पुं  
[°मेघ] मेघ-विशेष, जिसकी धारा से बड़ी  
कलशो भर जाय वह वर्षा (वित्ते १४५८) ।  
°सुया ली [°सुता] लक्ष्मण की ली का  
नाम, विशल्या (पउम ६४, ४४) ।  
दोणअ पुं [दे] १ आयुक्त, गाँव का मुखिया ।  
२ हालिक, हलवाह, हल जोतनेवाला, हरवाहा  
(दे ५, ५१) ।  
दोणक्का ली [दे] सरघा, मधुमक्खी (दे ५,  
५१) ।  
दोणी ली [द्वोणी] १ नौका, छोटा जहाज  
(पएह १, १; दे २, ४७; घम्म १२ टी) ।  
२ पानी का बड़ा कुंडा (अणु; कुप्र ४४१) ।  
दोत्तडी ली [दुस्तडी] दुष्ट नदी, 'एकत्तो  
सहूलो अन्नत्तो दोत्तडी वियडा' (उप ५३०  
टी; सुपा ४६३) ।  
दोत्थ न [दौस्त्थ्य] दुस्त्वता, दुर्दशा, दुर्गति  
(वव ४; ७) ।  
दोदाण वि [दुर्दान] दुःख से देने योग्य  
(संझि ४) ।  
दोदिअ पुं [दे] चर्म-कूप; चमड़े का वना  
हुआ भाजन-विशेष (दे ५, ४६) ।  
दोदु वि [दोग्घृ] दोहन-कर्ता (दस १, १ टी) ।  
दोधअ } न [दोधक] छन्द-विशेष  
दोधक } (पिंग) ।  
दोधार पुं [द्विधाकार] द्विवाकरण, दो भाग  
करना (ठा ५, ३—पत्र ३४६) ।  
दोनिक्कम वि [दुर्निक्रम] अत्यन्त कष्ट से  
चलने योग्य (भग ७, ६—पत्र ३०५) ।  
दोवुर पुं [दे] तुम्बुरु, स्वर्ग-गायक (पड्) ।  
दोव्वलिय देखो दुव्वलिय (आचा २, ३,  
२, ३) ।  
दोव्वल्ल न [दौर्वल्य] दुर्बलता (पि २८७;  
काप्र ८५) ।  
दोभाय वि [द्विभाग] दो भागवाला, दो  
खण्डवाला (उप १४७ टी) ।

दोमणसिय वि [दौर्मनस्यिक] खिल, शोक-  
ग्रस्त (ठा ५, २—पत्र ३१३) ।

दोमणस्स न [दौर्मनस्य] वैमनस्य, द्वेष,  
मन की दुष्टता (सुप्र २, २, ८२; ८३) ।

दोमासिअ वि [द्वैमासिक] दो मास का  
(मगः सुर १४, २२८) । व्री. °आ (सम  
२१) ।

दोमिय (अप) देखो दूमिअ = दावित (भवि) ।

दोमिली व्री [दोमिली] लिपि-विशेष (राज) ।

दोमुह वि [द्विमुख] १ दो मुँहवाला । २  
पुं. रूप-विशेष (महा) । ३ दुर्जन (गा २५३) ।

दोर पुं. [दे] १ डोरा, बागा, सूत (पठम ४,  
५०; कुप्र २२६; सुर ३, १४१) । २ छोटी  
रस्ती (श्रौच २३२; ६४ भा) । ३ कटि-सूत्र  
(दे ५, ३८) ।

दोरिया देखो दोरी (सिरि ६३) ।

दोरी व्री [दे] छोटी रस्ती (आ १६) ।

दोल अक [दोलय्] १ हिलना । २ झूलना ।  
दोलइ (हे ४, ४८) । दोलति (कम्पू) ।

दोलणय न [दोलनक] झूलन, अन्दोलन  
(दे ८, ४३) ।

दोल्या } व्री [दोला] झूला, हिडोला (सुपा  
दोला } २८६; कुमा) ।

दोल्याइय वि [दोल्यायित] १ हिला हुआ ।  
२ संशयित (हिका ११६) ।

दोल्यायमाण वि [दोल्यायमान] १ हिलता  
हुआ । २ संशय करता हुआ (सुपा ११७;  
गउड) ।

दोलिया देखो दोला (सुर ३, ११६) ।

दोलिर वि [दोलयित्] झूलनेवाला (कुमा) ।

दोव पुं [दोव] एक अनार्य जाति (राज) ।

दोवई व्री [द्वौपदी] राजा रूप की कन्या,  
पाण्डव-पत्नी (शाया १, १६; उप ६४८ वी;  
पडि) ।

दोवयण देखो दुवयण = द्विवचन (हे १;  
६४; कुमा) ।

दोवार (अप) देखो दुवार (सण) ।

दोवारिअ पुं [दोवारिक] द्वारपाल, दर-  
दोवारिय } वान, प्रतीहार (निचू ६; शाया  
१, १; मग ६, ५; सुपा ४२६) ।

दोविह देखो दुविह (उत्त २; नव ३) ।

दोवेली व्री [दे] सायंकाल का भोजन (दे ५,  
५०) ।

दोव्वल देखो दोव्वल (से ४, ४२; ८,  
८७) ।

दोस देखो दूस = दूप्य (श्रौच; उप ७६८ वी) ।

दोस पुं [दोप] दूपण, दुपुण, ऐव (श्रौच;  
सुर १, ७३; स्पण ६०; प्रासू १३) । °नु  
वि [°ञ्ज] दोष का जानकार, विद्वान् (पि  
१०५) । °ह वि [°व] दोष-नाशक; कुर्वन्ति  
पोसहं दोसहं सुद्धं (सुपा ६२१) ।

दोस पुं [दे] १ अर्थ, आषा (दे ५, ५६) । २  
कोप, क्रोध, गुस्ता (दे ५, ५६; पड्) । ३ द्वेष,  
द्रोह (श्रौच; कम्प; ठा १; उत्त ६; सुप्र १,  
१६; पण २३; सुर १, ३३; सण; भवि;  
कुप्र ३७१) ।

दोस पुं [दोस] हाथ, हस्त, बाहु (से  
२, १) ।

दोसणिज्जंत पुं [दे] चन्द्र, चन्द्रमा, चाँद (दे  
५, ५१) ।

दोसा व्री [दोषा] रात्रि, रात (सुर १, २१) ।

दोसाकरण न [दे] कोप, क्रोध (दे ५, ५१) ।

दोसाणिअ वि [दे] निर्मल किया हुआ (दे  
५, ५१) ।

दोसायर पुं [दोपाकर] १ चन्द्र, चाँद (उप  
७२८; वी; सुपा २७५) । २ दोषों को खान,  
दुष्ट (सुपा २७५) ।

दोसारअण पुं [दे. दोपारल] चन्द्र, चाँद  
(पड्) ।

दोसासय पुं [दोषाशय] दोष-युक्त, दुष्ट  
(पठम ११७, ४१) ।

दोसि वि [दोपिन्] दोषवाला, दोषी (कुप्र  
४३८) ।

दोसिअ पुं [दोपियिक] वस्त्र का व्यापारी  
(श्रा १२; वजा १६२) ।

दोसिण [दे] देखो दोसीण (पणह २, ५) ।

दोसिणा [दे] नीच देखो (ठा २, ४—पत्र  
८६) । °भा व्री [°भा] चन्द्र की एक पट-  
रानी (ठा ४१; इक; शाया २) ।

दोसिणी व्री [दे. दोपिणी] ज्योत्स्ना, चन्द्र-  
प्रकाश (दे ५, ५०); जसिजुरहा दोसिणी  
जव्वं (कुप्र ४३८) ।

दोसियण न [दोपिकान्न] वासी अन्न  
(राज) ।

दोसिह वि [दोपवत्] दोष-युक्त (वम्म  
११ वी) ।

दोसिह वि [दे] द्वेष-युक्त, द्वेषी (विसे  
१११०) ।

दोसीण न [दे] रात का वासी अन्न (पणह २,  
५; श्रौच १४५) ।

दोसील वि [दुस्शील] दुष्ट स्वभाववाला (पत्र  
७३) ।

दोसोलह वि. व. [द्विपोडशन्] वतीस,  
३२ (कम्पू) ।

दोह सक [दुह] द्रोह करना । वक्र. दोहंत  
(संबोध ४) ।

दोह पं. [दोह] दोहन (दे २, ६४) ।

दोह वि [दोह] दोहने योग्य (भास ८६) ।

दोह पुं [दोह] ईर्ष्या, द्वेष (प्राप्र; भवि) ।

दोहग्ग न [दौर्भाग्य] दुष्ट भाग्य, दुर्दष्ट,  
कमनसीवी (पणह १, ४; सुर ३, १७४; गा  
२१२) ।

दोहग्गि वि [दौर्भागिन्] दुष्ट भाग्यवाला,  
कमनसीव, मन्द-भाग्य (श्रा १६) ।

दोहण न [दोहन] दोहना, दूब निकालना  
(पणह १, १) । °वाडण न [°पाटन]  
दोहन-स्थान (निचू २) ।

दोहणहारी व्री [दे] १ दोहनेवाली व्री (दे  
१, १०८; ५, ५६) । २ पनिहारी, पानी  
भरनेवाली व्री, पनहारिन (दे ५, ५६) ।

दोहणी व्री [दे] पंक, कादा, कदम (दे ५,  
४८) ।

दोहय वि [दोहक] दोहनेवाला, (गा ४६२) ।

दोहय वि [दोहक] द्रोह करनेवाला, ईर्ष्यालु  
(उप ३५७ वी; भवि) ।

दोहल पुं [दोहद] गर्भिणी व्री का मनोरथ  
(हे १, २१७; २२१; कम्प) ।

दोहा अ [द्विधा] दो प्रकार (हे १, ६७) ।

दोहाइअ वि [द्विधाकृत] जिसका दो खण्ड  
किया गया हो वह (हे १, ६७ कुमा) ।

दोहासल न [दे] कटी-तट, कमर (दे ५,  
५०) ।

दोहि वि [दोहिन्] भरनेवाला, टपकनेवाला  
(गा ६३६) ।

दोहि वि [द्रोहिन्] द्रोह करनेवाला (भवि) ।  
दोहिण्ण वि [द्विभिन्न] द्विखण्ड, जिसका दो टुकड़ा किया गया हो वह (प्राकृ ५१) ।  
दोहित्त पुं [द्वौहित्त] लड़की का लड़का, नाती (दे ६, १०६; सुपा ३६४) ।

दोहित्ती स्त्री [द्वौहित्ती] लड़की की लड़की, नातिनी (महा) ।  
दोहूअ पुं [दे] शव, मृतक, मुरदा (दे ५, ४६) ।  
दोस देखो दोस = (दे); वजियरागदोसो (कुप्र ३०) ।

द्रवक (अप) न [दे. भय] भय, डर, भीति (हे ४, ४२२) ।  
द्रह पुं [हृद] बड़ा जलाशय, सरोवर, झील (हे २, ८०; कुमा) ।  
द्रेहि (अप) स्त्री [द्विष्टि] नजर (हे ४, ४२२) ।  
द्रोह देखो दोह = द्रोह (पि २६८) ।

॥ इय सिरिपाइअसदमहण्णवन्मि दआराइसदसंकलणो  
पंचवीसइमो तरंगो समत्तो ॥

## ध

ध पुं [ध] दन्त-स्यानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्राप; प्रामा) ।  
धअ देखो धव (गा २०) ।  
धख पुं [ध्वाङ्क्ष] काक, कौआ (उप ८२३; पंचा ११) ।  
धंग पुं [दे] भौंया, अमर, भमरा (दे ५, ५७) ।  
धंत न [ध्वान्त] अन्वकार, अंधेरा (नुर १, १२; कव ११) ।  
धंत न [ध्वान्त] अज्ञान (देवेन्द्र १) ।  
धंत न [दे] अति, अतिशय, अत्यन्त; 'धंत-पि सुअसमिदा' (पच २६; वित्ते ३०१६; वृह १) ।  
धंत वि [ध्मात्] १ अग्नि में तपाया हुआ (शाया १, १; श्रौप; पण १; १७; वित्ते ३०२६; अजि १४) । २ शब्द-युक्त, शब्दित (पिड) ।  
धंथा स्त्री [दे] लज्जा, शर्म (दे ५, ५७) ।  
धंधुक्य न [धन्धुक्य] गुजरात का एक नगर, जो आज कल 'बंधुका' नाम से प्रसिद्ध है (सुपा ६५८; कुप्र २०) ।  
धंधोलिय (अप) वि [अमित] धुमाया हुआ (सण) ।  
धंस अक [ध्वंस] नष्ट होना । धंसइ, वंसए (पड) ।

धंस सक [ध्वंसय्] १ नाश करना । २ दूर करना । धंसइ (सूत्र १, २, १) । धंसइ (सम ५०) ।  
धंसाड सक [मुच्] त्याग करना, छोड़ना । धंसाडइ (हे ४, ६१) ।  
धंसाडिअ वि [मुक्त] परित्यक्त, छोड़ा हुआ (कुमा) ।  
धंसाडिअ वि [दे] व्यपगत, नष्ट (दे ५, ५६) ।  
धगधग अक [धगधगाय्] १ 'धग्-धग्' आवाज करना । २ जलना, अतिशय जलना । वक. धगधगांत (शाया १, १; पउम १२, ५१; भवि) ।  
धगधगाइअ वि [धगधगायित] 'धग्-धग्' आवाजवाला (कप्प) ।  
धगधग देखो धगधग । वक. धगधगअ-माण (पि ५५८) ।  
धग्गीक्य वि [दे] जलाया हुआ, अत्यन्त प्रदीपित; 'अग्गी धग्गीक्यो व्व पवणेण' (आ १४) ।  
धज देखो धय = ध्वज (कुमा) ।  
धट्ट देखो धिट्ट (हे १, १३०; पउम ४६, २६; कुमा १, ८२) ।

धट्टुज्जुण } पुं [धृट्टुज्जुण] राजा द्रुपद का  
धट्टुज्जुण } एक पुत्र (हे २, ६४; शाया १, १६; कुमा; पड; पि २७८) ।  
धड न [दे] बड़, गले से नीचे का शरीर (सुपा २४१) ।  
धडहडिय न [दे] गर्जना, गजारव (सुपा १७६) ।  
धण न [धन] १ वित्त, विभव, स्थावर-जंगम सम्पत्ति (उत्त ६; सूत्र २, १; प्रासू ५१; ७६; कुमा) । २ गणिम, धरिम, मेय, या परिच्छेद्य द्रव्य—गिनती से और नाप आदि से क्रय-विक्रय योग्य पदार्थ (कप्प) । ३ पुं. कुवेर, धन-पति; 'सुध यो सिट्ठी धणोव्व वणकलिओ' (सुपा ३१०) । ४ स्वनाम-ध्यात एक श्रेष्ठो (उप ५५२) । ५ धन्य सार्थवाह का एक पुत्र (शाया १, १८) । 'इत्त, इह्व वि [धन्] धनी, धनवाला (कुप्र २४५; पि ५६५; संक्षि ३०) । 'गिरि पुं [गिरि] एक जैन महर्षि, जो वज्रस्वामी के पिता थे (कप्प; उप १४२ वी) । 'गुत्त पुं [गुत्त] एक जैन मुनि (आवम) । 'गोव पुं [गोव] धन्य सार्थवाह का एक पुत्र (शाया १, १८) । 'इह्व पुं [इह्व] एक जैनमुनि (कप्प) । 'गंदि पुं [गंदि] द्रुपता देव-द्रव्य, 'देव-

द्वं द्रुणं घणणंदी भणणइ (दंस १) ।  
 °णिहि पुं [°निधि] खजाना, भण्डार (ठा  
 ५, ३) । °तिथि वि [°तिथिन्] धन का अभि-  
 लायी (रयण ३८) । °दत्त पुं [°दत्त] १  
 एक सार्यवाह । २ तृतीय वासुदेव के पूर्व-  
 जन्म का नाम (सम १५३; सांदि; आवम) ।  
 °देव पुं [°देव] १ एक सार्यवाह,  
 मरिडक-गणवर का पिता (आवम; आचू  
 १) । २ धन्य सार्यवाह का एक पुत्र (साया  
 १; १८) । °पइ देखो °वइ (विपा २, १) ।  
 °पवर पुं [°प्रवर] एक श्रेष्ठी (महा) ।  
 °पाल पुं [°पाल] धन्य सार्यवाह का एक  
 पुत्र (साया १, १८) । देखो °वाल ।  
 °पभा स्त्री [°प्रभा] कुण्डलवर द्वीप की  
 राजधानी (दीव) । °मंत, °मण वि [°वन्]  
 धनी, धनवान् (पिंग; हे २, १५६; चंड) ।  
 °मित्त पुं [°मित्त] एक जैनमुनि (पउम  
 २०, १७१) । °य पुं [°द] १ एक सार्य-  
 वाह (सुपा ५०६) । २ एक विद्यावर राजा,  
 जो राजा रावण की मौसी का लड़का था  
 (पउम ८, १२४) । ३ कुवेर (महा) । ४  
 वि. धन देनेवाला; 'घणओ घणदिव्याणं'  
 (रयण ३८) । °रक्षित्य पुं [°रक्षित]  
 धन्य सार्यवाह का एक पुत्र (साया १, १८) ।  
 °वइ पुं [°पति] १ कुवेर (साया १, ४—  
 पत्र ६६; उप पृ १८०; सुपा ३८) । २ एक  
 राजकुमार (विपा २, ६) । °वई स्त्री  
 [°वती] एक सार्यवाह-पुत्री (दंस १) ।  
 °वंत, °वत्त देखो °मंत (हे २, १५६;  
 चंड) । °वह पुं [°वह] १ एक श्रेष्ठी (दंस  
 १) । २ एक राजा (विपा २, २) । °वाल  
 देखो °पाल । २ राजा भोज के समकालिक  
 एक जैन महाकवि (धण ५०) । °संचया  
 स्त्री [°संचया] एक वरिण्-महिला (महा) ।  
 °सम्म पुं [°शर्मन्] एक वरिण् (गच्छ  
 २) । °सिरी स्त्री [°श्री] एक वरिण्-महिला  
 (आव ४) । °सेण पुं [°सेन] एक राजा  
 (दंस ४) । °ल वि [°वत्] धनी (प्राप्र) ।  
 °वह वि [°वह] १ धन को धारण  
 करनेवाला, धनी । २ पुं. एक श्रेष्ठी (दंस  
 ४) । ३ एक राजा (विपा २, २) ।

धणंजय पुं [°धनजय] १ अजुंन, मध्यम

पाण्डव (विपी ११०) । २ वहि, अग्नि ।  
 ३ सर्प-विशेष । ४ वायु-विशेष, शरीर-व्यापी  
 पवन । ५ वृक्ष-विशेष (हे १, १७७; २,  
 १८५; पइ) । ६ उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का  
 गोच (इक) । ७ पञ्च का नववां दिन (जो  
 ४) । ८ श्रेष्ठि-विशेष (आव ४) । ९ एक  
 राजा (आवम) ।

धणि पुं [°धनि] शब्द, आवाज (विसे  
 १५०) ।

धणि स्त्री [°धणि] १ वृत्ति, सन्तोष (श्रीप) ।  
 २ अतृप्ति उत्पन्न करने की शक्ति; 'भमिवणि-  
 वितएह्याई' (विसे १६५३) ।

धणि वि [°धनिन्] धनिक, धनवान् (हे २,  
 १५६) ।

धणिअ पुं [°धनिक] धन-मत का प्रवर्तक  
 पुरुष-विशेष (मोह १०१; १०२) ।

धणिअ वि [°धनिक] १ पैसादार, धनी (दे  
 १, १४८) । २ पुं. मालिक, स्वामी (आ  
 १४) ।

धणिअ न [°दे] श्रवन्त, गाढ़, अतिशय (दे  
 ५, ५८; श्रीप; मग; महा; कप; सुर १,  
 १७५; भत्त ७३; पच्च ८२; जीव ३; उत्त  
 १; वव २; स ६६७) ।

धणिअ वि [°धन्य] धन्यवाद के योग्य,  
 प्रशंसनीय, स्तुतिपात्र; 'जाण धणियस्त  
 पुरओ निवडंति रणम्मि अस्सिवाया' (पउम  
 ५६, २५; अचु ४२) ।

धणिआ स्त्री [°दे] १ प्रिया, भार्या, पत्नी  
 (दे ५, ५८; गा ५८२; भवि) । २ धन्या,  
 स्तुति-पात्र स्त्री (पइ) ।

धणिट्टा स्त्री [°धनिट्टा] नक्षत्र-विशेष (सम  
 १०; १३; सुर १६, २४६; इक) ।

धणी स्त्री [°दे] भार्या, पत्नी । २ पर्याप्ति ।  
 ३ जो बंधा हुआ होते पर भी भय-रहित हो  
 वह (दे ५, ६२), 'सयमेव मंक्णीए वणीए  
 तं कंक्णी वद्धा' (कुप्र १८५) ।

धणु पुं [°धनुप्] १ वनुप, चाप, कामुक  
 (पइ; हे १, २२) । २ चार हाथ का  
 परिमाण (अणु; जी २६) । ३ पुं. परमा-  
 धार्मिक देवों की एक जाति (सम २६) ।  
 °कुडिल न [°कुडिलधनुप्] वक्र वनुप  
 (राय) । °ग्गह पुं [°ग्रह] वायु-विशेष (वह

३) । °द्वय पुं [°ध्वज] नृप-विशेष (ठा  
 ८) । °द्वर वि [°धर] वनुविद्या में निपुण,  
 वानुक (राज; पउम ६, ८७) । °पिट्ट न  
 [°पृष्ट] १ धनुप का शृंग-भाग । २ धनुप  
 के पीठ के आकारवाला क्षेत्र (सम ७३) ।  
 °पुहत्तिया स्त्री [°पृथक्त्विका] दो कोन,  
 गव्युति (परण १) । °वेअ, °वेअ पुं  
 [°वेद] वनुविद्या-बोधक शस्त्र, श्पु-शस्त्र  
 (उप ६८६ टो; सुपा २७०; जं २) । °हर  
 देखो °धर (भवि) ।

धणु पुं [°धनुस्] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक  
 राशि (विचार १०६; संबोध ५४) । °ह वि  
 [°मत्] धनुपवाला (प्राह ३५) ।

धणुक् } ऊपर देखो (सांदि; अणु; हे १,  
 धणुह } २२; कुमा) ।

धणुही स्त्री [°धनुप] कामुक, विसासो व  
 धणुहीओ गुणवद्धाओवि पयइकुडिलाओ'  
 (कुप्र २७४; स ३८१) ।

धणेसर पुं [°धनेश्वर] एक प्रसिद्ध जैनमुनि  
 और ग्रन्थकार (सुर १, २४६; १६, २५०) ।

धणग पुं [°धन्य] १ एक जैनमुनि । २  
 'अनुत्तरोपपातिकदसा' सूत्र का एक अन्वयन  
 (अनु २) । ३ यज्ञ-विशेष (विपा २, २) ।  
 ४ वि. कृतार्थ । ५ धन-दान के योग्य । ६  
 स्तुति-पात्र, प्रशंसनीय । ७ भाग्यशाली,  
 भाग्यवान् (साया १, १; कप; श्रीप) ।

धण्ण देखो धन्न = धान्य (आ १८; ठा ५,  
 ३; वव १) ।

धण्णंतरि पुं [°धन्वन्तरि] १ राजा कनकरय  
 का एक स्वनाम ह्यात वेद्य (विपा १, ८) ।  
 २ देव-वेद्य (जय २) ।

धण्णाउस वि [°दे] १ जिसको आशीर्वाद  
 दिया जाता हो वह । २ पुं. आशीर्वाद (दे  
 ५, ५८) ।

धत्त वि [°दे] १ निहित, स्थापित (आवम) ।  
 २ पुं. वनस्पति-विशेष (जीव १) ।

धत्त वि [°धात्त] निहित, स्थापित (राज) ।

धत्तरट्टग पुं [°धार्तराट्टक] हंस की एक  
 जाति, जिसके मुँह और पाँव काले होते हैं  
 (परह १, १) ।

धत्ती स्त्री [धात्री] १ धाई, उवमाता, दाई (स्वप्न १२२) । २ पृथिवी, भूमि । ३ आम-लकी-वृक्ष, आवले का पेड़ (हे २, ८१) । देखो धाई ।

धत्तूर पुं [धत्तूर] १ वृक्ष-विशेष, धतूरा । २ न. धतूरा का पुष्प (सुपा १२४) ।

धत्तूरिअ वि [धात्तूरिक] जिसने धतूरा का नशा किया हो वह (सुपा १२४; १७६) ।

धत्थ वि [धत्थ] ध्वंस-प्राप्त, नष्ट, नाश हुआ (हे २, ७६; सण) ।

धन्न देखो धण्ण = धन्य (कुमा; प्रासू ५३; ८४; १५५; उवा) ।

धन्न न [धान्य] १ धान, अनाज, अन्न (उवा; सुर १, ४६) । २ धान्य-विशेष; 'कुलत्थ तह धन्नय कलाया' (पव १५६) । ३ वनिया (दंसनि ६) । °कीड पुं [कीट] नाज में होनेवाला कीट, कीट-विशेष (जी १७) ।

°णिहि पुंस्त्री [निधि] धान रखने का घर, कोष्ठागार, भंडार (ठा ५, ३) । °पत्थय पुं [प्रस्थक] धान का एक नाप (वव १) ।

°पिडग न [पिटक] नाज का एक नाप (वव १) । °पुंजिय न [पुञ्जितधान्य] इकट्ठा किया हुआ अनाज (ठा ४, ४) ।

°विक्खित्त न [विक्षिप्तधान्य] विकीर्ण अनाज (ठा ४, ४) । °विरहिय न [विरहित-धान्य] वायु से इकट्ठा किया हुआ अनाज (ठा ४, ४) । °संक्रड्ढिय न [संक्रपितधान्य]

खेत से काटकर खले—खलिहान में लाया गया धान्य (ठा ४, ४) । °गार न [गार] कोष्ठागार, धान रखने का गृह (निचू ८) ।

धन्ना स्त्री [धान्य] अन्न, अनाज; 'सालिज-वाईयाओ धन्नाओ सब्बजाईओ (उप ६८६ टी) ।

धन्ना स्त्री [धन्या] एक स्त्री का नाम (उवा) । धम सक [धमा] १ धमना, धौकना, आग में तपाना । २ शब्द करना । ३ वायु पूरना ।

धमइ (महा) । धमेइ (कुप्र १४६) । वक्क-धमंत (निचू ?) । क्वक्क-धम्ममाण (उवा; णया १, २) ।

धमग वि [धमायक] धमनेवाला (श्रौप) । धमण न [धमन] १ आग में तपाना (आचानि १, १, ७) । २ वायु-पूरण (पएह १, १) । ३ वि. भज्जा, धमनी, भावी (राज) ।

धमणि } स्त्री [धमनि, °नी] १ भज्जा, धमणी } धमनी, धौकनी । २ नाड़ी, सिरा (विपा १, १, उवा; अंत २७) ।

धमधम अक [धमधमाय] 'धम-धम' आवाज करना; 'धमधमइ सिरं वणियं जायइ सुत्तं भज्जए विट्ठी' (सुपा ६०३) । वक्क-धमधमंत, धमधमाअंत, धमधमंत (सुपा ११४; नाट—मालती ११६; णया १, ८) ।

धमास पुं [धमास] वृक्ष-विशेष (पएण १७) । धमिअ वि [धमात्] जिसमें वायु भर दिया गया हो वह; 'धमिओ संखो' (कुप्र १४६) ।

धमिय वि [धमात्] आग में तपाया हुआ; 'धमियकण्यं फुंकाए हारविदं हुज्ज' (मोह ४७) ।

धम्म पुं [धर्म] १ एक देव-विमान (वेवेन्द्र १४३) । २ एक दिन का उपवास (संबोध ५८) ।

धम्म पुंन [धर्म] १ शुभ कर्म, कुशल-जनक अनुष्ठान, सदाचार (ठा १; सम १; २; आचा; सूय १; ६, प्रासू ५२; ११४; सं ५७) । २ पृण्य, सुकृत (सुर १, ५४; आव ४) । ३ स्वभाव, प्रकृति (निचू २०) । ४ गुण, पर्याय (ठा २, १) । ५ एक अरूपी पदार्थ, जो जीव की गति-क्रिया में सहायता पहुँचाता है (नव ५) । ६ वर्तमान अवसर्पणी काल में उत्पन्न पनहरेवं जिन-देव (सम ४३; पडि) । ७ एक वणिक (उप ७२८ टी) । ८ स्थिति, मर्यादा (आचू २) । ९ धनुष; कामुक (सुर १, ५४; पाअ) । १० एक जैन मुनि (कप्प) । ११ 'सूत्रकलाङ्ग' सूत्र का एक अव्ययन (सम ४२) । १२ आचार, रीति, व्यवहार (कप्प) । °उत्त पुं [पुत्र] शिष्य (प्राळ) । °उर न [पुर] नगर-विशेष (दंस १) । °कंखिअ वि [काङ्खित्त] धर्म की चाहवाला (भग) । °कहा स्त्री [कथा] धर्म-सम्बन्धी बात (भग; सम १२०; णया २) । °कहि वि [कथिन्] धर्म-कथा कहनेवाला, धर्म का उपदेशक (श्रौप ११५ भा; भा ६) । °कामय वि [कामक] धर्म की चाहवाला (भग) । °काय पुं [काय] धर्म का साधन-भूत-शरीर (पंचा १८) । °क्खाइ वि [ख्यायिन्] धर्म-प्रतिपादक (श्रौप) । °क्खाइ वि

[ख्याति] धर्म से ख्यातिवाला, धर्मात्मा (श्रौप) । °गुरु पुं [गुरु] धर्म-दर्शक गुरु, धर्माचार्य (द्र १) । °गुव वि [गुप्] धर्म-रक्षक (पड) । °वोस पुं [घोप] कईएक जैन मुनि और आचार्यों का नाम (आचू १; ती ७; आव ४; भग ११, ११) । °चक्र न [चक्र] जिनदेव का धर्म-प्रकाशक चक्र (पव ४०; सुपा ६२) । °चक्कवट्ठि पुं [चक्र-वर्तिन्] जिन-देव (आचू १) । °चक्कि पुं [चक्किन्] जिन भगवान् (कुम्मा ३०) । °जणणी स्त्री [जननी] धर्म की प्राप्ति करानेवाली स्त्री, धर्म-देशिका (पंचा १६) । °जस पुं [यशस्] जैनमुनि-विशेष का नाम (आव ४) । °जागरिया स्त्री [जागर्या] १ धर्म-चिन्तन के लिए किया जाता जागरण (भग १२, १) । २ जन्म से छठवें दिन में किया जाता एक उत्सव (कप्प) । °उम्मय पुं [ध्वज] १ धर्म-द्योतक ध्वज, इन्द्र-ध्वज (राय) । २ ऐरवत क्षेत्र के पाँचवें भावी जिन-देव (सम १५४) । °उम्माण न [ध्यान] धर्म-चिन्तन, शुभ ध्यान-विशेष (सम ६) । °उम्माणि वि [ध्यानिन्] धर्म ध्यान से युक्त (आव ४) । °ट्टि वि [थिन्] धर्म का अभिलाषी (सूय १, २, २) । °णायग वि [नायक] १ धर्म का नेता (सम १; पडि) । °णु वि [ज्ञ] धर्म का ज्ञाता (दंस ४) । °तिथयर पुं [तीर्थकर] जिनभगवान् (उत्त २३; पडि) । °थ न [थ] अन्न-विशेष, एक प्रकार का हथियार (पउम ७१, ६३) । °थि देखो °ट्टि (पंचव ४) । °थिकाय पुं [स्थिकाय] गति-क्रिया में सहायता पहुँचाने वाला एक अरूपी पदार्थ (भग) । °दय वि [दय] धर्म की प्राप्ति करानेवाला, धर्म-देशक (भग) । °दार न [द्वार] धर्म का उपाय (ठा ४, ४) । °दार पुं.व. [दार] धर्म-पत्नी (कप्प) । °दास पुं [दास] भगवान् महावीर का एक शिष्य और उपदेशमाला का कर्ता (उव) । °देव पुं [देव] एक प्रसिद्ध जैन (आचार्यं (साधं ७८) । °देसग, °देसय वि [देशक] धर्म का उपदेश करनेवाला (राज; भग; पडि) । °धुरा स्त्री [धुर] धर्म-ध्व



धुरा (गाथा १, ८)। °नायग देखो °णायग (भग)। °पडिमा लो [°प्रतिमा] १ धर्म की प्रतिज्ञा। २ धर्म का सावन-नूत शरीर (ठा १)। °पण्णत्ति लो [°प्रज्ञप्ति] धर्म की प्रहृषणा (उवा)। °पदिणी (शौ) लो [°पत्नी] धर्म-पत्नी, लो, नाया (अभि २२२)। °पिवासय वि [°पिपासक] धर्म के लिए प्यासा (भग)। [°पिवासिय] वि [°पिपासित] धर्म की प्यासवाला (तंडु)। °पुरिस पुं [°पुरुष] धर्म-प्रवर्तक पुरुष (ठा ३, १)। °पलज्जण वि [°प्ररजन] धर्म में आसक्त (गाथा, १, १८)। °प्पवाइ वि [°प्रवादिन्] धर्मोपदेशक (आचानि १, ४, २)। °प्पह पुं [°प्रभ] एक जैन आचार्य (रयण ५८)। °प्पावाउय वि [°प्रावाहुक] धर्म-प्रवादी, धर्मोपदेशक (आचानि १, १४, १)। °बुद्धि वि [°बुद्धि] धार्मिक, धर्म-मति। २ पुं. एक राजा का नाम (उप ७२८ टी)। °मिन्त पुं [°मित्र] भगवान् पद्मप्रस का पूर्वभवीय नाम (सम १५१)। °य वि [°द] धर्म-दाता, धर्म देशक (सम १)। °रुइ लो [°रुचि] १ धर्म-श्रीति (धर्म २)। २ वि. धर्म में लचि-वाला (ठा १०)। ३ पुं. एक जैन मुनि (विपा १, १; उप ६४८ टी)। ४ वाराणसी का एक राजा (आवम)। °लाभ पुं [°लाभ] १ धर्म की प्राप्ति। २ जैन साधु द्वारा दिया जाता आशीर्वाद (सुर ८, १०६)। °लाभिअ वि [°लाभित] जिसको 'धर्मलाभ' रूप आशीर्वाद दिया गया हो वह (स ६६)। °लाह देखो °लाभ (स ३६)। °लाहण न [°लाभन] धर्मलाभ-रूप आशीर्वाद देना; कयं धम्मलाहणं (स ४६६)। °लाहिअ देखो °लाभिअ (स १४८)। °वंत वि [°वंत्] धर्मवाला (आचा)। °वय पुं [°व्यय] धर्मायं दान, धर्मादा (सुपा ६१७)। °वि, °विउ वि [°वित्] धर्म का जानकार (आचा)। °विज्ज पुं [°वैज] धर्माचार्य (पंचव १)। °व्यय देखो °वय (सुपा ६१७)। °सज्जा लो [°श्रद्धा] धर्म-विश्वास (उत्त २६)। °सण्णा देखो °सज्जा (भग ७,

६)। °सत्य न [°शास्त्र] धर्म प्रतिपादक शास्त्र (दंस ४)। °सज्जा लो [°संज्ञा] १ धर्म-विश्वास। २ धर्म-बुद्धि (परह १, ३)। °सारहि पुं [°सारथि] धर्मरथ का प्रवर्तक, धर्म-देशक (वर २७, पडि)। °साला लो [°शाला] धर्म-न्याय (कर ३३)। °सील वि [°शील] धार्मिक (सूत्र २, २)। °सीह पुं [°सिंह] १ भगवान् अभिनन्दन का पूर्वभवीय नाम (सम १५१)। २ एक जैन मुनि (संथा ६६)। °सेण पुं [°सेन] एक बलदेव का पूर्वभवीय नाम (सम १५३)। °इगर वि [°दिक्कर] धर्म का प्रथम प्रवर्तक। २ पुं. जिन-देव (धर्म २)। °णुट्टाण न [°नुष्ठान] धर्म का आचरण (धर्म १)। °णुण्ण वि [°नुज] धर्म का अनुमोदन करनेवाला (सूत्र २, २; गाथा १, १८)। °णुय वि [°नुग] धर्म का अनुसरण करनेवाला (श्रीप)। °यरिय पुं [°चार्य] धर्म-दाता गुरु (सम १२०)। °वाय पुं [°वाद] १ धर्म-वर्चा। २ वारहवां जैन अंग-ग्रन्थ, दृष्टिवाद (ठा १०)। °हिगरणिय पुं [°धिकरणिक] न्यायाधीश, न्यायकर्ता (सुपा ११७)। °हिगारि वि [°धिकारिन्] धर्म-ग्रहण के योग्य (धर्म १)।

धम्म वि [धर्म्य] धर्म-युक्त धर्म-संगत; 'जं पुण तुमं कहेसि तमेव धम्मं' (महानि ४, द्र ४१)।

धम्ममाण पुं [दे] वृक्ष-विशेष (उप १०३१ टी; पज्ज ४२, ६)।

धम्ममाण देखो धम।

धम्मय पुं [दे] १ चार अंगुल का हस्त-ब्रह्म। २ चण्डी देवी की नर-बलि (दे ५, ६३)।

धम्मि वि [धर्मिन्] १ धर्म-युक्त, द्रव्य, पदार्थ। २ धार्मिक, धर्म-परायण (सुपा २६; ३३६; ५०६, वजा १०६)।

धम्मि वि [धर्मिन्] तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध पक्ष (धर्मसं ६३)।

धम्मिअ वि [धार्मिक] १ धर्म-तत्त्वर, धर्म-धर्मिण परायण (गा १६७; उप ८६२; परह २, ४)। २ धर्म-सम्बन्धी (उप २६४; पंचा ६)। ३ धार्मिक-संबन्धी (ठा ३, ४)।

धम्मिट्ट वि [धर्मिष्ठ] अतिशय धार्मिक (श्रीप सुपा १४०)।

धम्मिट्ट वि [धर्मिष्ठ] धर्म-प्रिय (श्रीप)।

धम्मिट्ट वि [धर्मिष्ठ] धार्मिक जन को प्रिय (श्रीप)।

धम्मिह पुं [धम्मिह] १ संघत केश, धम्मिह } वैवा हुआ केश, त्रिविध के बांधे हुए वाल की 'पटिया या लूड़ा'; बीच में फूल रखकर ऊपर से मोतियों की, या अन्य किसी रत्न की लड़ियों से वैवा हुआ केश-कलाप (प्राप्र; पड; संज्ञि ३)। २ पुं. एक जैन मुनि (आव ६)।

धम्मोसर पुं [धर्मेश्वर] अतीत उत्सर्पणीकाल में भरतवर्ष में उत्पन्न एक जिन-देव (पव ७)। धम्मोत्तर वि [धर्मोत्तर] १ गुणी, गुणों से श्रेष्ठ (आह ५)। २ न. धर्म का प्राधान्य; 'धम्मोत्तरं वड्डु' (पडि)।

धम्मोवएसग वि [धर्मोपदेशक] धर्म का धम्मोवएसय } उपदेश देनेवाला (गाथा १, १६; सुपा १७२; धर्म २)।

धय सक [धे] पान करना, स्तन-पान करना। वक्र. धयंत (सुर १०, ३७)।

धय पुं लो [ध्वज] ध्वजा, पताका (हे २, २७; गाथा १, १६; परह १, ४; गा ३४)। लो. °या (पिग)। °वड पुं [°पट] ध्वजा का वक्र (कुमा)।

धय पुं [दे] नर, पुरुष (दे ५, ५७)।

धयण न [दे] गृह, घर (दे ५, ५७)।

धयरट्ट पुं [धृतराष्ट्र] हंस पक्षी (पात्र)।

धर सक [धृ] १ धारण करना। २ पकड़ना। धरइ, धरेइ (हे ४, २३४; ३३६)। कर्म. धरिज्ज (पि ५३७)। वक्र. धरंत, धरमाण (सण; भवि; गा ७६१)। क्वक. धरंत, धरंत, धरिज्जंत, धरिज्जमाण (से ११, १२७; १४, ८१; राज; परह १, ४; श्रीप)। संक्र. धरिडं (कुप्र ७)। क. धरियव्व (सुपा २७२)।

धर सक [धरय्] पृथिवी का पालन करना। वक्र. धरंत (सुर २, १३०)।

धर न [दे] तूल, रूई (दे ५, ५७)।

धर पुं [धर] १ भगवान् पद्मप्रस का पिता (सम १५०)। २ मधुरा नगरी का एक राजा (गाथा १, १६)। ३ पर्वत, पहाड़ (से ८, ६३; पात्र)।

°धर वि [°धर] धारण करनेवाला (कप्प)।

धरगा पुं [दे] कपास (दे ५, ५८) ।

धरण पुं [धरण] १ नाग-कुमार देवों का दक्षिण-दिशा का इन्द्र (ठा २, ३; औप) । २ यदुवंशीय राजा अन्वक-वृष्णि का एक पुत्र (अंत ३) । ३ श्रेष्ठि-विशेष (उप ७२८ टी; सुपा ५५६) । ४ न. धारण करना (से ३, ३; सार्ध ६; वजा ४८) । ५ सोलह तोले का एक परिमाण (जो २) । ६ धरना देना, लघन-पूर्वक उपवेशन (पत्र ३८) । ७ तोलने का साधन (जो २) । ८ वि. धारण करनेवाला (कुमा) । ९ उपभ पुं [प्रभ] धरणेन्द्र का उपांत-पर्वत (ठा १०) ।

धरणा स्त्री [धरणा] देखो धारणा (एदि) ।

धरणि स्त्री [धरणि] १ भूमि, पृथिवी (औप; कुमा) । २ भगवान् अरनाय की शासन-देवी (संति १०) । ३ भगवान् वासुदेव्य की प्रथम शिष्या (सम १५२; पत्र ६) । ४ खील पुं [कील] मेरु पर्वत (सुज ५) । ५ चर पुं [चर] मनुष्य (पत्र १०१, ४७) । ६ धर पुं [धर] १ पर्वत, पहाड़ (अजि १७) । २ अयोध्या नगरी का एक सूर्य-वंशीय राजा (पत्र ५, ५०) । ३ धरप्पवर पुं [धरप्पवर] मेरु पर्वत (अजि १५) । ४ धरवइ पुं [धर-पति] मेरु पर्वत (अजि १७) । ५ धरा स्त्री [धरा] भगवान् विमलनाय की प्रथम शिष्या (सम १५२) । ६ यल न [तल] भूमि-तल, भू-तल (गाया १, २) । ७ इ पुं [पति] भू-पति; राजा (सुपा ३३४) । ८ वट्ट न [पृष्ट] मही-पीठ, भूमि-तल (महा) । हर देखो धर (से ६, ३६) ।

धरणिंद पुं [धरणेन्द्र] नाग-कुमारों की दक्षिण-दिशा का इन्द्र (पत्र ५, ३८) ।

धरणिसिमा पुं [धरणिशृङ्ग] मेरु पर्वत (सुज ५) ।

धरणी देखो धरणि (प्रासू २३; पि ५३; से ३, २४; कुप्र २२) ।

धरा स्त्री [धरा] पृथिवी, भूमि (गजड़; सुपा २०१) । २ धर, हर पुं [धर] पर्वत, पहाड़ (से ६, ७६; ३८; स २६६; ७०३; उप ७६८ टी) ।

धराधीस पुं [धराधीश] राजा (मोह ४३) ।

धराविअ वि [धारित] पकड़ा हुआ (स २०६; सुपा ३२५; संकि ३४) । २ स्थापित; 'धराविअ मउय' (कुप्र १४०) ।

धरिअ वि [धृत] १ धारण किया हुआ (गा १०१; सुपा १२२) । २ रोका हुआ (स २०६) ।

धरिजंत } देखो धर = धृ ।  
धरिजमाण }

धरिणी स्त्री [धरिणी] पृथिवी, भूमि (पात्र) ।

धरिती स्त्री [धरिती] पृथिवी, भूमि (ध्रु १२७; सम्मत् ३२६) ।

धरिम न [धरिम] १ जो तराजू में तौल कर देना जाय वह (आ १८; गाया १, ८) । २ ऋण, कर्जा (गाया १, १) । ३ एक तरह की नाप, तौल (जो २) ।

धरियव्य देखो धर = धृ ।

धरिस अक [धृप्] १ संहत होना, एकत्रित होना । २ प्रगल्भता करना, ढीठाई करना । ३ मिलना, संबद्ध होना । ४ सक. हिंसा करना, मारना । ५ अमर्ष करना, सहन नहीं करना । धरिसइ (राज) ।

धरिस सक [धरिय] धुव्व करना, विचलित करना । धरिसइ (उत्त ३२, १२) ।

धरिसण न [धरिण] १ परिभव, अभिभव । २ संहति, समूह । ३ अमर्ष, असहिष्णुता । ४ हिंसा; ५ बन्धन, योजन (निचू १; राज) । ६ प्रगल्भता, घृणता, ढीठाई (औप) ।

धरंत देखो धर = धृ ।

धव पुं [धव] १ पति; स्वामी (गाया १, १; वव ७) । २ वृक्ष-विशेष (परण १; उप १०३१ टी; औप) ।

धवक अक [दे] घड़कना, भय से व्याकुल होना, धुकधुकाना । धवकइ (सण) ।

धवकिय वि [दे] घड़का हुआ, भयसे व्याकुल बना हुआ (सण) ।

धवण न [धावण] बौन, चावल आदि का वावन-जल (सूक्त ८८) ।

धवल पुं [दे] स्व-जाति में उत्तम (दे ५, ५७) ।

धवल न [धवल] लगातार सोलह दिन का उपवास (संवाच ५८) ।

धवल वि [धवल] १ सफेद, श्वेत (पात्र; सुपा २८५) । २ पुं. उत्तम वैल (गा ६३८) । ३ पुं. छन्द-विशेष (पिंग) । ४ गिरि पुं [गिरि] कैलास पर्वत (ती ४६) । ५ गेह न [गेह] प्रासाद, महल (कुमा) । चंद्र पुं [चन्द्र] एक जैन मुनि (दं ४७) । ६ रव पुं [रव] मंगलगीत (सुपा २६५) । ७ हर न [गृह] प्रासाद, महल (आ १२; महा) ।

धवल सक [धवल्य] सफेद करना । धवलइ (पि ५५७) । कवक. धवलिजंत (गउड) ।

धवलक न [धवलक] ग्राम-विशेष, जो आजकल 'धोलका' नाम से गुजरात में प्रसिद्ध है (ती ३) ।

धवलण न [धवलण] सफेद करना, श्वेतीकरण (कुमा) ।

धवलसरण पुं [दे] हंस (दे ५, ५६; पात्र) ।

धवला स्त्री [धवला] गौ, गैया (गा ६३८) ।

धवलाअ अक [धवलाय] सफेद होना । धवलाअंत (गा ६) ।

धवलाइअ वि [धवलायित] १ उत्तम वैल की तरह जिसने कार्य किया हो वह । २ न. उत्तम वृषभ की तरह आचरण (सार्ध ६) ।

धवलिम पुं [धवलिम] सफेदपन, शुक्लता, सफेदी (सुपा ७४) ।

धवलिय वि [धवलित] सफेद किया हुआ (भवि) ।

धवली स्त्री [धवली] उत्तम गौ, श्रेष्ठ गैया (गउड) ।

धव्य पुं [दे] वेग (दे ५, ५७) ।

धस अक [धस्] १ बसना । २ नीचे जाना । ३ प्रवेश करना । धसइ, धसउ (पिंग) ।

धस पुं [धस्] 'धस्' ऐसा आवाज, गिरने की आवाज; 'धसति महिमंडले पडिओ' (महा; गाया १, १—पत्र ४७) ।

धसक पुं [दे] हृदय की धवराहट की आवाज, गुजराती में 'वासको'; 'तो जायहिअवसका' (आ १४; कुप्र ४३५) ।

धसकिय वि [दे] जून बरझामा हुआ (आ १४) ।

धसल वि [दे] विस्तीर्ण, फैला हुआ (दे ५, ५८) ।

धसिअ वि [धसित] घसा हुआ (हम्मोर १३) ।

धा सक [धा] वारण करना । वाइ, वाअइ वाअए (पइ) । कर्म, वीयए (पिंड) ।

धा सक [धै] ध्यान करना, चिन्तन करना । धाअंति (संलि ७६) ।

धा सक [धाव्] १ दौड़ना । २ शुद्ध करना, धोना । वाइ, वाअइ (हे ४, २४०) । भवि. वाहिइ (पइ) ।

धाइअ वि [धावित] दौड़ा हुआ (से ८, ६८; भवि) ।

धाइअसंड देखो धायइ-संड; (महा) ।

धाई देखो धर्त्ता (हे २, ८१; पव ६७) । ४ धाई का काम करने से प्राप्त की हुई भिन्ना (ठा ३, ४) । ५ छन्द-विशेष (पिंग) । ० पिंड पुं [०पिण्ड] धाई का काम कर प्राप्त की हुई भिन्ना (पव ६७) ।

धाई देखो धायई; (उप ६४८ टो) ।

धाउ पुं [धातु] १ सोना, चांदी, तांबा, लोहा, रंग, सीसा और जस्ता ये सात वस्तु (जी ३) । २ गेह, मन्सिल आदि पदार्थ (से ४, ४; परह १, २) । ३ शरीर-वारक वस्तु—कफ, वात, पित्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्वि, मज्जा और शुक (औप; कुप्र १५८) । ४ पृथिवी, जल, तेज और वायु ये चार महानूत (सूअ १, १, १) । ५ व्याकरण प्रसिद्ध शब्द-योनि, 'भू', 'पच्' आदि (अणु) । ६ स्वभाव, प्रकृति (स २४१) ।

७ नाट्य-शास्त्र-प्रसिद्ध आलतिका-विशेष (कुमा २, ६६) । ० ध वि [०ज] १ धातु से उत्पन्न । २ वद्ध-विशेष (पंचमा) । ३ नाम, शब्द (अणु) । ० वाइअ वि [०वादिक्] औपवि आदि के योग से तात्र आदि को सोना व गैरह बनानेवाला, किमियागर (कुप्र ३६७) ।

धाउ पुं [धातु] परापलि नामक व्यन्तर देवों का एक इन्द्र (ठा २, ३) ।

धाउसोसण न [धातुशोपण] आर्यविल तप (संबोध ५८) ।

धाड अक [निर + स] बाहर निकलना । वाइइ (हे ४; ७६) ।

धाड सक [निर + सारय्] बाहर निकालना । संक. धाडिऊण (कुप्र ८३) । कवक.

धाडिजंत (पउम १७, २८; ३१, ११६) ।

धाड सक [धाट्] प्रेरणा करना । २ नाश करना । धाडेंति (सूअनि ७०) । कवक. धाडोयंत (परह १, ३—पत्र ५४) ।

धाडण न [धाटन] बाहर निकालना (वव ४) ।

धाडण न [धाटन] १ प्रेरणा । २ नाश (औप) ।

धाडय वि [दे. धाटक] डाका डालनेवाला, 'वाडयपुरिसा ह्या तव्य' (सिदि ११४६) ।

धाडाविअ वि [निस्सारित] बाहर निकाली हुआ, निर्वासित (पउम २२, ८) ।

धाडि वि [दे] निरस्त, निराकृत (दे ५, ५६) ।

धाडिअ वि [निःसृत] बाहर निकला हुआ (कुमा) ।

धाडिअ पुं [दे] आराम, वगोचा (दे ५, ५६) ।

धाडिअ वि [निस्सारित] निर्वासित, बाहर निकाला हुआ (पउम १०१, ६०; स २२८; उप ७२८ टो) ।

धाडो लो [धाटी] १ डाकुओं का दल (सुर २, ४; प्राह) । २ हमला, आक्रमण, धावा (कण्) ।

धाण देखो धण्ण = धन्य (वज्रा ६०) ।

धणा लो [धाना] धनिया, एक प्रकार का मसाला (दे ७, ६६; प्राह) ।

धाणुक वि [धाणुक] धनुष, धनुविद्या में निपुण (उप पृ ८६; सुर १३, १६२; वेणी ११४; कुप्र ४५२) ।

धाणूरिअ न [दे] फल-भेद (दे ५, ६०) ।

धाम पुंन [धामन्] अहंकार, गर्व । २ रस आदि में लम्पटता । ३ वि. गर्व-युक्त । ४ रस आदि में लम्पट (संबोध १६) ।

धाम न [धामन्] बल, पराक्रम (आरा ६३; सरण) ।

धाय वि [धात] १ वृत्त, संतुष्ट (शोध ७७ भा; सुर २, ६७) । २ न. सुभिन्न, सुकाल (वृह ५) ।

धामड् } लो [धातकी] वृत्त-विशेष, धाम  
धायई } का पेड़ (परण १; पउम ५३,

७६; ठा २, ३; सम १५२) । ० खंड पुं

[०खण्ड] स्वनाम-ख्यात एक द्वीप (ठा २, ३; अणु) । ० संड पुं [०पण्ड] स्वनाम-ख्यात एक द्वीप (जीव ३; ठा ८; इक) ।

धार सक [धारय्] १ वारण करना । २ करजा रखना । धारेइ (महा) । वक. धारंत, धारअंत, धारेमाण, धारयमाण, धारित (सुर ३, १८६; नाट—विक्र १०६; नग; सुपा २५४; २६४) । हेक. धारिडं, धारेत्तए, धारित्तए, (पि ५७३; कस; ठा ५, ३) । क. धारणिज्ज, धारणीय, धारे-यच्च (साया १, १; नग ७, ६; सुर १४, ७७; सुपा ४८२) ।

धार न [धार] १ धारा-संबन्धी जल । २ वि वारण करनेवाला (राज) ।

धार वि [दे] लघु, छोटा (दे ५, ५६) ।

धारण वि [धारक] वारण करनेवाला (कण्; उप पृ ७५; सुपा २५४) ।

धारण न [धारण] १ धारने की अवस्था । २ ग्रहण । ३ रक्षण, रखना । ४ परिचान करना । ५ अवलम्बन (औप; ठा ३, ३) ।

धारणा लो [धारणा] १ मर्यादा, स्विति (आवम) । २ विषय ग्रहण करनेवाली बुद्धि (ठा ८; दंस ५) । ३ ज्ञात विषय का अविस्मरण (वित्ते २६१) । ४ अवधारण, निश्चय (आवम) । ५ मन की स्थिरता । ६ धर का एक अवयव, धरती या धरत (भग ८, २) । ० धवहार पुं [धवहार] व्यवहार-विशेष (ठा ५, २) ।

धारणा लो [धारणा] मकान का खंभा, धरत (आचा २, २, ३, १ टो; पव १३३) ।

धारणिज्ज देखो धार = धारय् ।

धारणी लो [धारणी] १ धारण करनेवाली (औप) । २ ग्यारहवें जिनदेव की प्रथम शिष्या (सम १५२) । ३ वसुदेव आदि अनेक राजाओं की रानी का नाम (अंत; आचू; १; विपा २, १; साया १, १) ।

धारणीय देखो धार = धारय् ।

धारय देखो धारण (शोध १; भवि) ।

धारयमाण देखो धार = धारय् ।

धारा स्त्री [दे] रण-मुक्त, रण-भूमि का अग्रभाग (दे ५, ५२)।  
 धारा स्त्री [धारा] १ अन्न के आगे का भाग, धार (गण्ड; प्राप् ६२)। २ प्रवाह, एाली (महा)। ३ अन्न की गति-विशेष (कुमा; महा)। ४ जल-धारा, पानी की धारा। ५ वर्षा, वृष्टि। ६ द्रव पदार्थों का प्रवाह रूप से पतन (गण्ड)। ७ एक राज-पत्नी (आवम)।  
 °कथं व पुं [°कदम्ब] कदम्ब की एक जाति, जो वर्षा से फलती-फूलती है (कुमा)।  
 °धर पुं [°धर] मेघ (सुपा २०२)। °धारि न [°धारि] धारा से गिरता जल (भग १३६)। °धारिय वि [°धारिक] जहाँ धारा से पानी गिरता हो वह (भग १३, ६)।  
 °ह्य वि [°ह्य] वर्षा से सिक्त (कम्प)।  
 °हर देखो °धर (सुर १३, १६५)।  
 धारा स्त्री [धारा] मालव देश की एक नगरी (मोह ८८)।  
 धारावास पुं [दे] १ भेक, मेढक, बेंग (दे ५, ६३; पङ्)। २ मेघ (दे ५, ६३)।  
 धारि वि [धारिन्] धारण करनेवाला (श्रीप; कम्प)।  
 धारित देखो धार = धार्य।  
 धारिद्ध न [धार्य] घृष्टता, उदरदता, गर्व, साहस (आख्या० म० कोश० अ० २३ भावटीका क्या पद्य ५२६)।  
 धारिणी देखो धारणी (श्रीप)।  
 धारित्तए देखो धार = धार्य।  
 धारिय वि [धारित] धारण किया हुआ (भवि; आचा)।  
 धारी देखो धत्ती (हे २, ८१)।  
 धारी देखो धारा (कुमा)।  
 धारेत्तए } देखो धार = धार्य।  
 धारयन्व }

धावणय पुं [धावनक] दौड़ते हुए समाचार पहुँचाने का काम करनेवाला, हरकारा, संदेशिया (सुपा १०५, २६५)।  
 धावणया स्त्री [यान] स्तन-पान करना (उप; ८३३)।  
 धावमाण देखो धाव।  
 धाविअ वि [धावित] दौड़ा हुआ (भवि)।  
 धाविर वि [धावितृ] दौड़नेवाला (सण; सुपा ५४)।  
 धावी देखो धाई = धात्री (उप १३६ टी; स ६६; सुर २, ११२; १६, ६८)।  
 धाहा स्त्री [दे] बाह, पुकार, चिल्लाहट (पञ्च ५३, ८८; सुपा ३१७, ३४०)।  
 धाहाविय न [दे] बाह, पुकार, चिल्लाहट (स ३७०; सुपा ३८०; ४६६; महा)।  
 धाहिय वि [दे] पलायित, भागा हुआ (धम्म ११ टी)।  
 धि अ [धिक्] धिक्कार, छो: (रंभा)।  
 धिइ स्त्री [धृति] १ धैर्य, धीरज (सुप्र १, ८; पङ्)। २ धारण (आवम)। ३ धारणा, ज्ञात विषय का अविस्मरण (विसे)। ४ धरण, अस्वयान (सुप्र १, ११)। ५ अहिंसा (पण्ड २, १)। ६ धैर्य की अविष्टायिका देवी। ७ देवी की प्रतिमा-विशेष (राज; णाया १, १ टी—पत्र ४३)। ८ तिगिच्छिद्रह की अविष्टायिका देवी (इक; ठा २३)।  
 °कूड न [°कूट] धृति-देवी का अविष्टित शिखर-विशेष (जं ४)। °धर पुं [°धर] १ एक अन्तकृद् महर्षि। २ 'अंतगड-दसा' सूत्र का एक अव्ययन (अंत १८)। °म, °मंत वि [°मन्] धीरजवाला (ठा ८; पण्ड २, ४)।  
 धिइ स्त्री [धृति] तैला, लगातार तीन दिन का उपवास (संनोष ५८)।  
 धिक्कय वि [धिक्कृत] १ धिक्कारा हुआ (वव १)। २ न. धिक्कार, तिरस्कार (बृह ६)।  
 धिक्करण न [धिक्करण] तिरस्कार, धिक्कार (णाया १, १६)।  
 धिक्करिअ वि [धिक्कृत] धिक्कारा हुआ (कुप्र १५७)।

धिक्कार पुं [धिक्कार] १ धिक्कार, तिरस्कार (पण्ड १, ३; द्र २६)। २ युगलिक मनुष्यों के समय की एक दण्ड-नीति (ठा ७—पत्र ३६८)।  
 धिक्कार सक [धिक् + कारय्] धिक्कारना, तिरस्कार करना। कवक. धिक्कारिज्जमाण (पि ५६३)।  
 धिज्ज न [धैर्य] धीरज, धृति (हे २, ६४)।  
 धिज्ज वि [धैर्य] धारण करने योग्य (णाया १, १)।  
 धिज्ज वि [ध्वेय] ध्यान-योग्य, चित्तनीय (णाया १, १)।  
 धिज्जाइ पुं स्त्री [द्विजाति, धिग्जाति] ब्राह्मण, विप्र। स्त्री. 'तत्य महा नाम धिज्जाइणी' (आवम)।  
 धिज्जाइय पुं स्त्री [द्विजातिक, धिग्जा-धिज्जाइय] तीय ब्राह्मण, विप्र (महा; उप १२६; आव ३)।  
 धिज्जीविय न [धिग्जीवित] निन्दनीय जीवन (सुप्र २, २)।  
 धिइ वि [धृष्ट] ढीठ, प्रगल्भ। २ निलंज, वैशरम (हे १, १३०; सुर २, ६; गा ६२७; आ १४)।  
 धिइज्जुण्ण देखो धट्टज्जुण्ण (पि २७८)।  
 धिट्ठिम पुं स्त्री [धृष्टत्व] घृष्टता, ढीठई (सुपा १२०)।  
 धिइ स्त्री अ [धिक् धिक्] छो: छो: (उज; धिथी) व ६१; रंभा)।  
 धिप्प अक [दीप्] दीपना, चमकना।  
 धिप्पइ (हे १, २२३)।  
 धिप्पिर वि [दीप्] देदीप्यमान, चमकीला (कुमा)।  
 धिय अ [धिक्] धिक्कार, छो:; 'वेइ गिरं धिय मुंडिय' (उप ६३४)।  
 धिरत्थु अ [धिगस्तु] धिक्कार हो (णाया १, १६; महा; प्राह)।  
 धिसण पुं [धिपण] बृहस्पति, सुर-गुरु (पत्र)।  
 धिसि अ [धिक्] धिक्कार, छो: (सुपा ३६५; सण)।  
 धी देखो धीआ; 'जं मंगलं कुंभनिवस्स धीए मल्लोइ राईसरंदि आए' (मंगल १२, २०)।

धी धी [धी] बुद्धि, मति (पात्र; साया १, १६; कुप्र ११६; २४७; प्रासू २०) । °धण वि [°धन] ? बुद्धिमान, विद्वान् । २ पुं. एक मन्त्री का नाम (उप ७६८ टी) । °म, °मंत वि [°मन्] बुद्धिशाली, विद्वान् (उप ७२८ टी; कप्प; राज) ।

धी ध [धिक्] धिक्कार, झोः (उप; वै ४५) ।

धीआ धी [दुहितु] लडकी, पुत्री (मुच्च १०६; वि ३६२; महा; नवि; पच्च ४२) ।

धीड देखो धिड् [धुच्छा गात्रकविया चलि-  
न्या दुच्छना व धीरे] (पव ६२ टी) ।

धीउट्टिया धी [दे] पुतली (उ ७३७) ।

धीमल्ल न [धिम्मल्ल] निन्दनीय मैल (तंडु ३८) ।

धीर अक [धीरय्] ? धीरज करना । २ सक. धीरज देना, आश्वासन देना । धीरंत (गउड) ।

धीर वि [धीर] ? धैर्यवाला, सुस्विर, अ-  
चञ्चल (सि ४, ३०; गा ३६७; ठा ४, २) । २ बुद्धिमान, परिष्कृत, विद्वान् (उप ७६८ टी; धर्म २) । ३ विवेकी, शिष्ट (सुप्र १, ७) । ४ नहिष्णु (सुप्र १, ३, ४) । ५ पुं. परमेश्वर, परमात्मा, जितन्देव । ६ गणेशदेव (धात्ता; याव ४) ।

धीर न [धिये] धीरज, धीरता (हे २, ६४; कुमा) ।

धीरज अक [धीरय्] सान्त्वना देना, रितासा देना । कर्म. धीरविजगति (कुप्र २७३) ।

धीरज न [धीरण] धीरज देना, सान्त्वना (व १) ।

धीरधिय वि [धीरिण] निमलो सान्त्वना के गई हो पड़, प्राप्ति (सि ६०४) ।

धीराअ अक [धीराय्] धीर होना, धीरज करना । वक्र. धीराअत (ने १२, ७०) ।

धीराअअ देखो धीरधिय (सि ५५६) ।

धीरिअ देखो धीर = धैर्य (हे २, १००) ।

धीरिअ देखो धीरधिय (नवि) ।

धीरिअ बुद्धे [धीरत्त्व] धैर्य, धीरज (उप ७२८ टी; गुण १०६; भाग; कुप्र १५०) ।

धीवर पुं [धीवर] ? मल्लनीमार, अद्युमा, मल्लाह, जालजीवी (कुमा; कुप्र २४७) । २ वि. उत्तम बुद्धिवाला (उप ७६८ टी; कुप्र २४७) ।  
धुअ देखो धुव = वाव् । धुअइ (गा १३०) ।  
धुअ अक [धु] ? कंपनी । २ फँकना । ३ त्याग करना । वक्र. धुअमाण (सि १४, ६६) ।

धुअ वि धुव = धुव (नवि) । छन्द-विशेष (पिंग) ।

धुअ वि [धूत] ? कम्पित । २ न. कम्प (प्राक ७०) ।

धुअ वि [धुत] ? कम्पित (गा ७८; दे १, १७२) । २ त्यक्त (श्रीप) । ३ उच्छलित (सि ४, ४) । ४ न. कर्म (सुप्र २, २) । ५ मोक्ष, मुक्ति (सुप्र १, ७) । ६ त्याग, संग-  
त्याग, संयम (सुप्र १, २, २; आचा) ।  
°वाय पुं [°वाद्] कर्म-नाश का उपदेश (आचा) ।

धुअगाय पुं [दे] अमर, भौरा, नमरा (दे ५, ५७; पात्र) ।

धुअण देखो धुवण (पव १०१) ।

धुअराय पुं [दे] ऊपर देखो (पड) ।

धुंधुमार पुं [धुंधुमार] रुप-विशेष (कुप्र २६३) ।

धुंधुमारा धी [दे] इन्द्राणी, शची (दे ५, ६०) ।

धुक्क अक [धुक्] धुक् लगना । धुक्कइ (प्राक ६३) ।

धुक्काधुक्क अक [कम्प्] कंपनी, 'धुक्-धुक्' होना । धुक्काधुक्कइ (गा ५८३) ।

धुक्कुद्धुअ } वि [दे] उल्लसित, उल्लास-  
धुक्कुद्धुअधुअ } युक्त (दे ५, ६०) ।

धुक्कुद्धुअ देखो धुक्काधुक्क । वक्र. धुक्कु-  
धुअंत (नवि) ।

धुक्कोडिअ न [दे] संशय, संदेह (वजा ६८) ।

धुग्धुग अक [धुग्धुगाय्] 'धुग् धुग्' ग्राह्य करना । वक्र. धुग्धुगंत (परइ १, ३-५५ ४५) ।

धुट्टुअ देखो धुट्टुअ । धुट्टुअइ (हे ४, ३६५) ।

धुण अक [धु] ? कंपनी, हिलाना । २ दूर करना, दृष्टाना । ३ नाश करना । धुणइ, धुणाइ

(हे ४, ५६; आचा; वि १२०) । कर्म. धुणइ, धुणिअइ (हे ४, २४२) । वक्र. धुणंत (सुपा १५५) । संकृ. धुणिऊण, धुणिया, धुणेऊण (पड; दस ६, ३) । हेक. धुणित्तए (सुप्र १, २, २) । क. धुणेऊ (आच १) ।

धुणण न [धूनण] ? अपनयन । २ परित्याग, छोड़ना (राज) ।

धुणणा धी [धूनणा] कम्पन, हिलना (शोध १६५ भा) ।

धुणा देखो धुणगा (उत्त २६, २७) ।

धुणाअ अक [धूनय्] कंपनी, हिलाना । धुणाअइ (वजा ६) ।

धुणाविअ वि [धूनित्त] कंपनी हुआ (उप ७६८ टी) ।

धुणि देखो धुणि (पड) ।

धुणिऊण } देखो धुण ।  
धुणित्तए }

धुणिय वि [धूत] कम्पित, हिलाया हुआ; 'मत्ययं धुणियं' (सुपा ३२०; २०१) ।

धुणिया } देखो धुण ।  
धुणेऊण }

धुण्ण वि [धाण्य] ? दूर करने योग्य । २ न. पाप । ३ कर्म (दस ६, १; दसा ६) ।

धुत्त वि [धूर्त्त] ? ठग, वक्चक; प्रतारक (प्रासू ४०; आ १२) । २ जुआ खेलनेवाला । ३ पुं. चतुरे का पड़ । ४ लोहे की काट—मैल । ५ लवण-विशेष, एक प्रकार का नोन (हे २, ३०) ।

धुत्त वि [दे] ? विस्तीर्ण (दे ५, ५८) । २ आक्रान्त (पड) ।

धुत्त } अक [धूर्त्तय्] ठगना । धुत्तारत्ति  
धुत्तार } (सुपा ११४) । वक्र. धुत्तयंत (आ १२) ।

धुत्तारिअ वि [धूर्त्तित्त] ठगा हुआ, वञ्चित (उप ७२८ टी) ।

धुत्ति धी [धूर्त्ति] जरा, बुढ़ापा (राज) ।

धुत्तिअ वि [धूर्त्तित्त] वञ्चित, प्रतारित (सुपा ३२४ आ १२) ।

धुत्तिम पुं धी [धूर्त्तित्त] धूर्त्तता, धूर्त्तपन, ठगाई (हे १, ३५; कुमा; आ १२) ।

धुत्ती धी [धूर्त्ती] धूर्त्त धी (वजा १०६) ।

धुत्तोरय न [धत्तूरक] वतूरे का पुष्प (वजा १०६)।

धुद्धुअ (अप) अक [शब्दाय] आवाज करना। धुद्धुअइ (हे ४, ३६५)।

धुप्प देखो धिप्प। धुप्पइ (प्राक ७०)।

धुम्म पुं [धूम] १ धूम, धुआं। २ वर्ण-विशेष, कपोत-वर्ण। ३ वि. कपोत वर्ण-वाला। ४ वृक्ष पुं [धूम] एक राक्षस (से १२, ६०)।

धुर न. देखो धुरा (उप पृ ६३)।

धुर पुं [धुर] १ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३)। २ कर्जदार, अणुः जिस्स कल-सम्मि वहियाळंडाई तस्स धुरवणं लब्धं पुणरवि देउं धुराणं (सुपा ४२६)।

धुरंधर वि [धुरंधर] १ भार को वहन करने में समर्थ, किसी कार्य को पार पहुँचाने में शक्तिमान्, भार-वाहक (से ३, ३६)। २ नेता, मुखिया; अणुआ (सणः उत्तर २०)। ३ पुं. गाड़ी, हल आदि खींचनेवाला बैल (दे ८, ४४)।

धुरा स्त्री [धुर] १ गाड़ी वगैरह का अग्र भाग, धुरी (उव)। २ भार, बोझ। ३ चिता (हे १, १६)। ४ धार वि [धार] धुरा को वहन करनेवाला, धुरन्वर (पल्लम ७, १७६)।

धुरी स्त्री [धुरी] अक, धुरा, गाड़ी का जूआ (अणु)।

धुरीण वि [धुरीण] धुरन्धर; मुखिया, अणुआ (धर्मवि १३६; सम्मत्त ११८)।

धुव सक [धाव्] बोना, शुद्ध करना। धुवइ, धुवति (हे ४, २३८; गा ४३३; पिड २८)। वृक. धुवंत (से ८, १०२)। कवक. धुवंत, धुवमाण (गा ५६३; से ६, ४५; वजा २४; पि ५३८)।

धुव सक [धू] कौपाना, हिलाना। धुवइ (हे ४, ५६; पड)। कर्म. धुवइ (कुमा)। कवक. धुवंत (कुमा)।

धुव वि [धुव] १ निरचल, स्थिर (जीव ३)। २ नित्य, शाश्वत, सर्वदा-स्थायी (ठा ५, ३; सूत्र २, ४)। ३ अवश्यमावी (सूत्र २, १)। ४ निश्चित, नियत (आचा)। ५ पुं. अथ के शरीर का आवर्त (कुमा)। ६ मोक्ष,

मुक्ति। ७ संयम, इन्द्रियादि-निग्रह (सूत्र १, २, १)। ८ संसार (अणु)। ९ न. मुक्ति का कारण, मोक्ष-मार्ग (आचा)। १० कर्म (अणु)। ११ अत्यन्त, अतिशय; 'धुवमो-गिरहइ' (ठा ६)। १२ कर्मिय पुं [कर्मिक] लोहार आदि शिल्पी (वव १)। १३ चारि वि [चारिन्] मुमुक्षु, मुक्ति का अभिलाषी (आचा)। १४ णिग्गह पुं [णिग्रह] आव-श्यक, अवश्य करने योग्य अनुष्ठान-विशेष (अणु)। १५ मग्ग पुं [मार्ग] मुक्ति-मार्ग, मोक्ष-मार्ग (सूत्र १, ४, १)। १६ राहु पुं [राहु] राहु-विशेष (सम २६)। १७ वण्ण पुं [वर्ण] १ संयम। २ मोक्ष, मुक्ति। ३ शाश्वत यश (आचा)। देखो धुअ = ध्रुव।

धुवण न [धावन] १ प्रक्षालन (ओष ७२; ३४७; स २७२)। २ वि. कौपानेवाला, हिलानेवाला। स्त्री. णी (कुमा)।

धुवण पुंन [धूपन] १ धूप देना। धूम-पान (दस ३, ६)।

धुविया स्त्री [धुविता] कर्म-विशेष, ध्रुव-वन्विनी कर्म-प्रकृति (पंच ५, ६६)।

धुव्व देखो धुव = धाव्। धुव्वइ (संक्षि ३६)।

धुव्वंत देखो धव = धू।

धुव्वंत } देखो धुव = धाव्।  
धुव्वमाण }

धुहअ वि [दे] पुरस्कृत, आगे किया हुआ (पड)।

धूअ वि [धूत्] देखो धुअ = धुत (आचा; दस ३, १३; पि ३१२; ३६२; सूत्र १, ४, २)।

धूअ देखो धूव = धूप (सुपा ६५७)।

धूअ न [धूत्] पहले बँधा हुआ कर्म, पूर्व-कर्म (सूत्र २, २, ६५)।

धूआ स्त्री [दुहित्] लड़की, पुत्री (हे २; १२६; प्रासू ६४)।

धूण पुं [दे] गज, हाथी (दे ५, ६०)।

धूणिय वि [धूनित्] कम्पित (कुप्र ६८)।

धूम पुं [धूम] १ हाँस आदि वधार (पिड २५०)। २ क्रोध, गुस्सा। ३ वि. क्रोधी (संबोध १६)।

धूम पुं [धूम] १ धूम, धुआं, अग्नि-चिह्न (गउड)। २ द्वेष, अप्रीति (पएह २, १)। ३ इंगाल पुं व. [इंगार] द्वेष और राग (ओष २८८ भा)। ४ केउ पुं [केतु] १ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३; पएह १; ५; औप)। २ वहि, अग्नि, आग (उत्त २२)। ३ अशुभ उत्पात का सूचक तारा-पुञ्ज (गउड)। ४ चारण पुं [चारण] धूम के अवलम्बन से आकाश में गमन करने की शक्तिवाला मुनि-विशेष (गच्छ २)। ५ जोणि पुं [योनि] बादल, मेघ (पाथ)। ६ उभय देखो द्दय (राज)। ७ दोस पुं [दोष] भिक्षा का एक दोष, द्वेष से भोजन करना (आचा २, १, ३)। ८ द्दय पुं [ध्वज] वहि, अग्नि (पाथ; उप १०३१ टी)। ९ प्पभा, प्पहा स्त्री [प्रभा] पाचवीं तरक-पृथिवी (ठा ७; प्राह)। १० ल वि [ल] धुआं वाला (उप २६४ टी)। ११ वडल पुंन [पटल] धूम-समूह (हे २, १६८)। १२ वण्ण वि [वर्ण] पाण्डुर वर्णवाला (साया १, १७)। १३ सिहा स्त्री [शिखा] धुएँ का अग्रभाग (ठा ४, २)।

धूमंग पुं [दे] अमर, भौरा, भमरा (दे ५, ५७)।

धूमण न [धूमन] धूम-पान (सूत्र २, १)।

धूमहार न [दे] गवाक्ष, वातायन, भरोखा (दे ५)।

धूमद्दय पुं [दे] १ तड़ाग, तलाव, तालाव २ महिप, भैंसा (दे ५, ६३)।

धूमद्दयमहिस्सी स्त्री. व. [दे] कृत्तिका नक्षत्र (दे ५, ६२)।

धूमपलियाम वि [दे] गर्त में डालकर आग लगाने पर भी जो कच्चा रह जाय वह (निचू १५)।

धूममहिस्सी स्त्री [दे] नीहार, कुहरा, कुहासा (दे ५, ६१; पाथ)।

धूमरी स्त्री [दे] १ नीहार, कुहासा (दे ५; ६१)। २ तुहिन, हिम (पड)।

धूमसिहा } स्त्री [दे] नीहार, कुहासा (दे ५,  
धूमा } ६१; ठा १०)।

धूमा देखो धूमाअ। धूमाइ (प्राक ७१)।

धूमाअ अक [धूमाय्] १ धुआं करना। २ जलाना। ३ धूम की तरह आचरना।

धूमाग्रंति (से ८, १६; गउड) । वक्र, धूमाग्रंत  
(गउड; से १, ८) ।

धूमाभा ली [धूमाभा] पांचवीं नरक-पृथिवी  
(पउम ७५, ४७) ।

धूमिअ वि [धूमित] १ धूमयुक्त (पिउ) । २  
छोंका हुआ (शाक आदि) (दे ६; ८८) ।

धूमिआ ली [दे] नोहार, कुहासा (दे ५,  
६१; पाग्र; ठा १०; नग ३, ७; अणु) ।

धूर्या देखो धूआ (सूत्र १, ४, १, १३) ।

धूरिअ वि [दे] बोर, लम्बा (दे ५, ६२) ।

धूरिअवट्ट पुं [दे] अघ, घोड़ा (दे ५, ६१) ।

धूलडिआ (अप) देखो धूलि (हे ४, ४३२) ।

धूलि } ली [धूलि, °ठी] धूल, रज, रेणु  
धूली } (गउड; प्राप् २८; ८४) । °कंज,  
°कंजव पुं [°कदन्व] शीघ्र ऋतु में विक-

सनेवाला कदन्व-वृक्ष (कुमा) । °जंघ वि  
[°जङ्घ] जिसके पांव में धूल लगी हो वह

(वव १०) । °धूसर वि [°धूसर] धूल से  
लित (गा ७७४; ८२६) । °घोड वि

[°घोल] धूल को साफ करनेवाला (सुपा  
३३६) । °पंथ पुं [°पय] धूलि-बहुल मार्ग

(श्रीप २४ टी) । °वरिस पुं [°वर्ष] धूल  
की वर्षा (आवम) । °हर न [°ग्रह] वर्षा ऋतु

में लड़के लोग जो धूल का घर बनाते हैं वह  
(उप ५१७ टी) ।

धूलिहडी ली [दे] पर्व-विशेष, होली; धूलि-  
हडीरायत्तणसरिता सर्व्वसि हसणिज्जा

(कुलक ५) ।

धूलीवट्ट पुं [दे] अघ, घोड़ा (दे ५, ६१) ।

धूय संक [धूपय] धूप करना । धूवेज  
(आचा २, १३) । वक्र, धूवेत (पि ३६७) ।

धूप पुं [धूप] १ सुगन्धि द्रव्य से उत्पन्न  
धूम । २ सुगन्धि द्रव्य-विशेष, जो देव-यूना  
आदि में जलाया जाता है (खाया १, १;  
सुर ३, ६५) । °वडां ली [°वटी] धूप-  
पात्र, धूप से भरी हुई कलशी (जं १) । जंत  
न [°यन्त्र] धूप-पात्र (दे ३, ३५) ।

धूवण न [धूपन] १ धूप देना । २ धूम-गान,  
रोग की निवृत्ति के लिए किया जाता धूम का  
पात्र; 'धूवणे ति वमणे व व लोकात्मविरेणणे'  
(वस ३, ६) । °वट्टि ली [°वत्ति] धूप की  
वनी हुई बतिका, अग्रवती (कम्पू) ।

धूविअ वि [धूपित] १ तापित, गरम किया  
हुआ । २ हींग आदि से छोंका हुआ (चाह  
६) । ३ धूप दिया हुआ (श्रीप; गउड १) ।

धूसर पुं [धूसर] १ हलका पीला रंग, ईपत्  
पाण्डु वर्ण । २ वि. धूसर रंगवाला, ईपत्  
पाण्डु वर्णवाला (प्राप् ८४; गा ७७४; से ६,  
८२) ।

धूसरिअ वि [धूसरित] धूसर वर्णवाला  
(पाग्र; नवि) ।

धे संक [धा] धारण करना । धेइ (संदि  
३३); 'धेहि धीरत्तं' (कुप्र १००) ।

धेअ } वि [धेय] व्यान-योग्य (अजि  
धेज्ज } १४; खाया १, १) ।

धेउड्डिया देखो धीउड्डिया (सुख ३, १) ।

धेज्ज वि [धेय] धारण करने योग्य (खाया  
१, १) ।

धेज्ज न [धेय] धीरज, धीरता (परह २,  
२) ।

धेणु ली [धेणु] १ नव-प्रसूता गौ । २ सवत्सा  
गौ । ३ द्वार गाय (हे ३, २६; चंड) ।

धेर देखो धीर = धैयं (विक्र १७) ।

धेयय पुं [धेयत] स्वर-विशेष, 'धेययस्वरसं-  
पराणा भवंति कलहणिया' (ठा ७—पत्र  
३६३) ।

धोअ संक [धाव] धोना, शुद्ध करना,  
पलारना । धोएजा (आचा) । वक्र, धोयंत

(सुपा ८३) ।

धोअ वि [धौत] धोया हुआ, प्रक्षालित (जि  
१, २५; ७, २०; गा ३६६) ।

धोअग वि [धावक] १ धोनेवाला । २ पुं.  
धोत्री (उप वृ ३३३) ।

धोअण वि [धावन] धोना, प्रक्षालन (या  
२०; रमण १८; श्रीप ३४७) ।

धोइअ देखो धोअ = धौत (गा १८) ।

धोज्ज वि [धुय] १ धुरीण, भार-वाहक । २  
अगुग्रा, नेता, धुरन्धर (वव १) ।

धोरण न [दे] गति-चातुर्य (श्रीप) ।

धोरणि } ली [धोरणि, °णी] पक्ति, कतार  
धोरणी } (सुपा ४६; नवि; पड) ।

धोरिय देखो धोज्ज (सुपा २८२) ।

धोरुगिणी ली [धोरुगिनिका] देश-विशेष  
में उत्पन्न ली (खाया १, १—पत्र ३७) ।

धोरिय वि [धोरिय] देखो धोज्ज (सुपा  
६५०) ।

धोय देखो धोअ = धाव । धोवइ (स १५७;  
पि ७८) । धोवेजा (आचा) । वक्र, धोयंत

(नवि) । कवक, धोव्यंत, धोव्यमाण (पउम  
१०, ४४; खाया १, ८) । क. धोवणिय  
(खाया १, १६) ।

धोवण देखो धोअण (पिउ २३) ।

धोवय देखो धोवग (दे ८, ३६) ।

ध्रुवु (अप) अ [ध्रुवम्] अरुल, स्थिर (हि  
४, ४१८) ।

॥ इअ सिरिपाइअसदमहणवमि धआराइसदंक्कलणो  
द्वन्वीसदमो तरंगो समत्तो ॥

## न देखो रा

१ प्राकृत भाषा में नकारादि सब शब्द एकारादि होते हैं, अर्थात् आदि के नकार के स्थान में नित्य या विकल्प से 'ए' होनेका व्याकरणों का सामान्य नियम है (प्राप्र २, ४२; दे ५, ६३ टी; हे १, २२६; पड् १, ३, ५३), और प्राकृत-साहित्य-ग्रन्थों में दोनों तरह के प्रयोग पाए जाते हैं। इससे-ऐसे सब सब शब्द एकार के प्रकरण में आ जाने से यहाँ पर पुनरावृत्ति कर व्यर्थ में पुस्तक का कलेवर बढ़ाना उचित नहीं समझा गया है। पाठकगण एकार के प्रकरण में आदि के 'ए' के स्थान में सर्वत्र 'न' समझ लें। यही कारण है कि नकारादि शब्दों के भी प्रमाण एकारादि शब्दों में ही दिए गए हैं।

## प

प पुं [प] १ ओष्ठ-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्राप)। २ पाप-स्यागः 'पत्ति य पाववज्जणे' (आवम)।

प अ [प्र] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ प्रकर्षः 'पगोत्त' (से २, ११)। २ प्रारम्भः 'परामिअ', 'पकरेइ' (जं १; भग १, १)। ३ उत्पत्ति। ४ ख्याति, प्रसिद्धि। ५ व्यवहार। ६ चारों ओर से (निचू १; हे २, २१७)। ७ प्रसवण, मूत्र (विसे ७८१)। ८ फिर-फिर (निचू ३; १७)। ९ गुजरा हुआ, विनष्टः 'पासुअ' (ठा ४, २—पत्र २१३ टी)।

पं वि [प्राच्] पूर्वं तरफ स्थित (भवि)।

पअंगम पुं [प्लयङ्गम] छन्द-विशेष (पिंग)।

पअंध पुं [प्रजङ्घ] राक्षस-विशेष (से १३, ८३)।

पअन्ध देखो पगन्ध = प्रगल्भ (प्राकृ ७८)।

पइ अ [प्रति] १ अपेक्षा-सूचक (दसनि ३, १)। २ लक्ष्य, तरफ, ओरः 'भल्यच्छं पइ चलियं (सम्मत्तं १४१; धर्मवि ५६)।

पइ पुं [पति] १ धव, भर्ता, परिवार्य करने-वाला (पाप्र, गा १५६; कम्प)। २ मालिक।

३ रक्षकः 'भूवई', 'तिग्रसगणवई', 'नरवई' (सुपा ३६; अजि १७; १६)। ४ श्रेष्ठ, उत्तमः 'घरणावरवई' (अजि १७)। ५ घर न [गृह] समुदाय (पड्)। ६ वया, वय्या ली [व्रता] पति-सेवा-परायण ली, कुलवती ली, सती (गा ४१७; सुर ६, ६७)। ७ र देखो 'घर (हे १, ४)।

पइ देखो पडि (ठा २, १; काल; उवर २१)।

पइअ वि [दे] १ भस्मित, तिरस्कृत। २ न. पहिया, ख-चक्र (दे ६, ६४)।

पइइ देखो पगइ = प्रकृति (से २, ४५)।

पइउं देखो पय = पच्।

पइउवचरण न [प्रत्युपचरण] प्रत्युपचार, प्रति-सेवा (रंभा)।

पइऊल देखो पडिकूल (नाट—विक्र ४५)।

पइंवया देखो पइ-वया (णाया १, १६—पत्र २०४)।

पइक (अप) देखो पाइक (पिंग)।

पइकिदि देखो पडिकिदि (नाट—शकु ११६)।

पइक देखो पाइक (पिंग; पि १६४)।

पइगिइ देखो पडिकिदि (स ६२५)।

पइच्छन्न पुं [प्रतिच्छन्न] भुत-विशेष (राज)।

पइज्ज (अप) वि [पतित] गिरा हुआ (पिंग)।

पइज्ज (अप) वि [प्राप्त] मिला हुआ, लब्ध (पिंग)।

पइज्जा देखो पइण्णा (भवि; सण)।

पइट्ट वि [दे] १ जिसने रस को जाना हो वह। २ विरल। ३ पुं. मागं, रास्ता (दे ६, ६६)।

पइट्ट देखो पगिट्ट (सट्टि ५ टी)।

पइट्ट वि [दे] प्रेषित, भेजा हुआ; 'जह अइ-कुमर मिच्छो अभयपइट्टं जिणस्स पडिवि' (संनोव ३)।

पइट्ट पुं [प्रतिष्ठ] भगवान् सुपार्धनाथ के पिता का नाम (सम १५०)।

पइट्ट वि [प्रविष्ट] जिसने प्रवेश किया हो वह (स ४२६)।

पइट्टव सक [प्रति-स्थापय] मूर्ति आदि की विधि-पूर्वक स्थापना करना। पइट्टवेज्जा (पंचा ७, ४३)।

पइट्टवण देखो पइट्टावण (राज)।



पइट्टा ली [प्रतिष्ठा] १ आदर, सम्मान । २ कीर्ति, यश । ३ व्यवस्था (हे १, २०६) । ४ स्थापना, संस्थापन (रांदि) । ५ अवस्थान, स्थिति (पंचा ८) । ६ मूर्ति में ईश्वर के गुणों का आरोपण; 'जिणविवाण पइट्टं कइया वि हु आइसंतत्स' (सुर १६, १३) । ७ आश्रय, आघार (औप) ।

पइट्टा ली [प्रतिष्ठा] १ धारणा, वासना (रांदि १७६) । २ समाधान, शंका निरास-पूर्वक स्वपक्ष-स्थापन (चिद्वय ५३५) ।

पइट्टाण पुं [प्रतिष्ठान] मूल प्रदेश (राय २७) ।

पइट्टाण न [प्रतिष्ठान] १ स्थिति, अवस्थान; 'काज्जण पइट्टाणं रमणिज्जे एत्य अच्छामो' (पउम ४२, २७; ठा ६) । २ आवार, आश्रय (भग) । ३ महल आदि की नींव (पव १४८) । ४ नगर-विशेष (आक २१) ।

पइट्टाण न [दे] नगर, शहर (दे ६, २६) । पइट्टावक } देखो पइट्टावय (खाया १, १६ पइट्टावग } राज) ।

पइट्टावण न [प्रतिष्ठापन] १ संस्थापन (पंचा ७) । २ ध्वजस्थापन (पंचा ७) ।

पइट्टावय वि [प्रतिष्ठापक] प्रतिष्ठा करने-वाला (औम; पि २२०) ।

पइट्टाविय वि [प्रतिष्ठापित] संस्थापित (स ६२; ७०५) ।

पइट्टिअ वि [प्रतिष्ठित] प्रतिवद्ध, रुका हुआ (आचा २, १६, १२) ।

पइट्टिय वि [प्रतिष्ठित] १ स्थित, अवस्थित (उवा) । २ आश्रित; 'रयणायरतीरपइट्टियाण पुरिसाण जं न दालिइ' (प्रातू ७०) । ३ व्यवस्थित (आचा २, १, ७) । ४ गौरवान्वित (हे १, ३८) ।

पइणयय वि [प्रतिनियत] नियम-संगत, नियमित (धर्मवि २६६) ।

पइणं वि [दे] विपुल, विस्तृत (दे ६, ७) ।

पइण वि [प्रतीर्ण] प्रकृत से तीर्ण (आचा) ।

पइण } वि [प्रकीर्ण, क] १ विलिप्त पइणान } फँका हुआ; 'रत्यापइणणययणु-प्पला तुमं सा पइच्छए एतं' (गा १४०) । २ अनेक प्रकार से मिश्रित (पंचू) । ३ विखरा हुआ (ठा ६) । ४ विस्तारित (वृह १) । ५ न. ग्रंथ-विशेष, तीर्थकर-देव के

सामान्य शिष्य द्वारा वनाया हुआ ग्रंथ (रांदि) । ६ कहा ली [कथा] उत्सर्ग, सामान्य नियम; 'उत्सर्गो पइणकहा भएणइ अरवादो नियच्छकहा भएणइ' (निचू ५) । ७ तव पुं [तपस्] तपश्चर्या-विशेष (पंचा १६) । पइण्णा ली [प्रतिज्ञा] १ प्रण, शपथ (नाट-मालती १०६) । २ नियम (औप; पंचा १८) । ३ तर्कशास्त्र प्रतिद्ध अनुमान-प्रमाण का एक अवयव, साध्य वचन का निर्देश (दसनि १) ।

पइण्णाद (शौ) वि [प्रतिज्ञात] जिसकी प्रतिज्ञा की गई हो वह (भा १५) ।

पइण्णि वि [प्रतिज्ञावत्] प्रतिज्ञावाला, 'बंधमोक्खपइण्णो' (उत्त ६, १०; सुव, १०) ।

पइत्त देखो पउत्त = प्रवृत्त (भवि) ।

पइत्त वि [प्रदीप्त] जला हुआ, प्रज्वलित (से १५, ७३) ।

पइत्त देखो पवित्त = पवित्र (सुपा ७४) ।

पइदि (शौ) देखो पगइ (नाट—शकु ६१) ।

पइदिण न [प्रतिदिन] हर रोज (काल) ।

पइद्विय वि [प्रदिग्ध] विलिप्त (सुय १, ५, १) ।

पइदियह न [प्रतिदिवस] प्रतिदिन, हर रोज (सुर १, ५०) ।

पइनियय वि [प्रतिनियत] मुकरंर किया हुआ, नियुक्त किया हुआ (आवम) ।

पइन्न देखो पइण्ण = प्रतीर्ण (परह २, १ टी—पत्र १०५) ।

पइन्न } देखो पइण्ण (उव; भवि; आ ६) । पइन्नग }

पइन्नय देखो पइन्नग (चिद्वय १६) ।

पइन्ना देखो पइण्णा (सुर १, १) ।

पइप्प देखो पल्लिप्प । वृद्ध. पइप्पमाण (गा ४१६) ।

पइप्पइय न [प्रतिप्रतीक] प्रत्यंग, हर अंग (रंभा) ।

पइभय वि [प्रतिभय] प्रत्येक प्राणी को भय उपजानेवाला (खाया १, २; परह १, १; औप) ।

पइभा ली [प्रतिभा] बुद्धि-विशेष, प्रत्युत्पन्न-मति (पुष्क ३३१) ।

पइभाणण न [प्रतिभाज्ञान] प्रतिभा से उत्पन्न होता ज्ञान, प्रातिभ प्रत्यक्ष (धर्मसं १२०६) ।

पइमुह वि [प्रतिमुख] संमुख (उप ७४४) ।

पइर सक [वप्] बोना, वपन करना । पइरिति (आचा २, १०, २) । भूका. पइरिखु (आचा २, १०, २) । भवि. पइरिखंसति (आचा २, १०, २) । कर्म. पइरिखंजति (स ७१३) ।

पइरिक्क वि [दे. प्रतिरिक्त] १ शून्य, रहित (दे ६, ७१; से २, १५) । २ विशाल, विस्तीर्ण (दे ६, ७१) । ३ तुच्छ, हलका (से १, ५८) । ४ प्रचुर, विपुल (श्रीव २४६—पत्र १०३) । ५ नितान्त, अत्यन्त 'पइरिक्कसुहाए मणाणुकूलाए विहारभूमिए' (कप्प) । ६ न. एकान्त स्थान, विजन स्थान, निर्जन जगह (दे ६, ७१; स २३५; ७५५; गा ८८; उप २६३) ।

पइल (अप) देखो पढम (पि ४४६) ।

पइलाइया ली [प्रतिलादिका] हाथ के बल चलनेवाली सपं की एक जाति (राज) ।

पइल्ल पुं [दे. पदिक] १ ग्रह-विशेष, ग्राहविष्टायक देव-विशेष (ठा २, ३) । २ रोग-विशेष, श्लेष (परह २, ५) ।

पइव पुं [प्रतिव] एक यादव का नाम (राज) ।

पइवरिस न [प्रतिवर्ष] हरएक वर्ष (पि २२०) ।

पइवाइ वि [प्रतिवादिन्] प्रतिवादी, प्रतिपक्षी (विसे २४८८) ।

पइविसिट्ट वि [प्रतिविशिष्ट] विशेष-युक्त, विशिष्ट (उवा) ।

पइविसेस पुं [प्रतिविशेष] विशेष, भेद, भिन्नता (विसे ५२) ।

पइस देखो पविस । पइसइ (भवि) । पइसंति (दे १, ६४ टि) । कर्म. पइसिज्जइ (भवि) । वृद्ध. पइसंत (भवि) । क. पइसियव्व (स २३४) ।

पइसमय न [प्रतिसमय] हर समय, प्रतिक्षण (पि २२०) ।

पइसर देखो पविस । पइसरइ (भवि) ।

पइसार सक [ प्र + वेश्य ] प्रवेश कराना ।  
पइसारइ (भवि) ।

पइसारिय वि [ प्रवेशित ] जिसका प्रवेश  
कराया गया हो वह, 'पइसारियो य नयारि'  
(महा; भवि) ।

पइहंत पुं [ दे ] जयन्त, इन्द्र का एक पुत्र  
(दे ६, १६) ।

पइहा सक [ प्रति + हा ] त्याग करना ।  
संक्र. पइहिऊण (उव) ।

पइ<sup>०</sup> देखो पइ = पति (पंड; हे १, ४; सुर  
१, १७६) ।

पइअ वि [ प्रतीत ] १ विज्ञात । २ विश्वस्त ।  
३ प्रसिद्ध, विख्यात (विसे ७०६) ।

पइअ न [ प्रतीक ] अंग, अवयव (रंभा) ।

पइइ स्त्री [ प्रतीति ] १ निरवास । २ प्रसिद्धि  
(राज) ।

पइव देखो पलीव । पइवेइ (कस) ।

पइव पुं [ प्रदीप ] दीपक, दिया (पात्र;  
जो १) ।

पइव वि [ प्रतीप ] १ प्रतिकूल (हे १,  
२०६) । २ पुं. शत्रु, दुश्मन (उप ६४८ टी;  
हे १, २३१) ।

पइस (अप) देखो पइस । पइसइ (भवि) ।

पउ (अप) वि [ पतित ] गिरा हुआ (पिन) ।

पउअ देखो पागय = प्राकृत (प्राकृ ५) ।

पाउअ पुं [ दे ] दिन, दिवस (दे ६, ५) ।

पउअ न [ प्रयुत ] संख्या-विशेष, 'प्रयुताङ्ग'  
को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या  
लव्व हो वह (इक; ठा २, ४) ।

पउअंग न [ प्रयुताङ्ग ] संख्या-विशेष, 'अयुत'  
को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या  
लव्व हो वह (ठा २, ४) ।

पउंज सक [ प्र + युज् ] १ जोड़ना, युक्त  
करना । २ उच्चारण करना । ३ प्रवृत्त  
करना । ४ प्रेरणा करना । ५ व्यवहार  
करना । ६ करना । पउंजइ (महा; भवि; पि  
५०७) । पउंजति (कम्प) । वृद्ध. पउंजंत,  
पउंजमाण (श्रीप; पउम ३५, ३६) । कवकृ.  
पउजमाण (प्रपौ २३) । कृ. पउंजिअव्य,  
पउज्ज (पएह २, ३; उप ७२८ टी; विसे  
३३८४); पउद्व्य (अप) (कुमा) ।

पउंजग वि [ प्रयोजक ] प्रेरक, प्रेरणा करने-  
वाला (पंचव १) ।

पउंजग वि [ प्रयोजन ] प्रयोग करनेवाला  
(पउम १४, १०) । देखो पओअण ।

पउंजणया स्त्री [ प्रयोजना ] प्रयोग (श्रीप  
पउंजणा ११४); 'दुक्खं कीरइ कव्वं'  
कव्वम्मि कए पउंजणा दुक्खं' (वज्जा २) ।

पउंजिअ वि [ प्रयुक्त ] जिसका प्रयोग किया  
गया हो वह (सुपा १४०; ४४७) ।

पउंजित्तु वि [ प्रयोक्त्तु ] प्रवृत्ति करनेवाला  
(ठा ५, १) ।

पउंजित्तु वि [ प्रयोजयित्तु ] प्रवृत्ति करनेवाला  
(ठा ५, १) ।

पउज्ज } देखो पउंज ।  
पउज्जमाण }

पउट्ट अ [ परिवृत्य ] मार कर । 'परिहार पुं'  
[ परिहार ] मर कर फिर उसी शरीर में  
उत्पन्न होकर उस शरीर का परिभोग करना,  
'एवं खलु गोसाला ! वणस्सइ-काइयाओ पउट्ट-  
परिहारं परिहरति' (भग १५—पत्र ६६७) ।

पउट्ट वि [ परिवर्त ] १ परिवर्त, मर कर  
फिर उसी शरीर में उत्पन्न होना । २ परिवर्त-  
वाद; 'एस रां गीयमा ! गोसालस्स मंखलि-  
पुत्तस्स पउट्ट' (भग १५—पत्र ६६७) ।

पउट्ट वि [ प्रवृष्ट ] बरसा हुआ (हे १,  
१३१) ।

पउट्ट पुं [ प्रकोष्ठ ] हाथ का पहँचा, कलाई और  
केहुनी के बीच का भाग (पएह १, ४—पत्र  
७८; कम्प; कुमा) ।

पउट्ट वि [ प्रजुष्ट ] १ विशेष सेवित । २ न.  
अति उच्छिष्ट (चंड) ।

पउट्ट वि [ प्रद्विष्ट ] द्वेष-युक्त; 'तो तो पउट्ट-  
चित्तो' (सुपा ४७५) ।

पउठ न [ दे ] १ गृह; घर । २ पुं. घर का  
परिचम-प्रदेश (दे ६, ४) ।

पउण अक [ प्रगुणय ] तन्दुस्त होना,  
नीरोग होना; 'अन्नस्स चिगिक्खाए पउणइ  
अन्नो न लोगम्मि' (धम्मसं ११८४) ।

पउण पुं [ दे ] १ ब्रह्म-प्ररोह । २ नियम-  
विशेष (दे ६, ६५) ।

पउण वि [ प्रगुण ] १ पट्ट, निर्दोष; 'कह

सच्चरणविहाणं जायइ पर्जाणदियारणपि' (सुपा  
४७२; महा) । २ तैयार, तय्यार (दंस ३) ।

पउणाड पुं [ प्रपुनाट ] वृद्ध-विशेष, पमाड  
का पंड, चक्कड़ (दे ५, ५ टि) ।

पउत्त अक [ प्र + वृत् ] प्रवृत्ति करना । कृ.  
पउत्तिद्व्य (श्री) (नाट—शकु ८७) ।

पउत्त वि [ प्रयुक्त ] जिसका प्रयोग किया  
गया हो वह (महा; भवि) । २ न. प्रयोग  
(राया १, १) ।

पउत्त पुं [ पौत्र ] लड़के का लड़का, पोता  
(प्राकृ १०; श्रु ११७) ।

पउत्त न [ प्रतोत्र ] प्रतोद, प्राचन, चाकुल, पैना  
(दसा १०) ।

पउत्त वि [ प्रवृत्त ] जिसने प्रवृत्ति की हो वह  
(उवा) ।

पउत्ति स्त्री [ प्रवृत्ति ] १ प्रवर्तन (भग १५) ।  
२ समाचार, वृत्तान्त (पात्र; सुर २, ४८;  
३, ८४) । ३ कार्य, काज, काम । 'वाउय वि  
[ व्वापृत ] कार्य में लगा हुआ (श्रीप) ।

पउत्ति स्त्री [ प्रयुक्ति ] बात, हकीकत (उप  
पु २२८; राज) ।

पउत्तिद्व्य देखो पउत्त = प्र + वृत् ।

पउत्तु [ प्रयोक्त्तु ] १ प्रयोग-कर्ता । २ प्रेरणा  
कर्ता । ३ कर्ता, निर्माता । स्त्री <sup>०</sup>त्ती (तंडु  
४५) ।

पउत्थ न [ दे ] १ गृह, घर (दे ६, ६६) ।  
२ वि. प्रोषित, प्रवास में गया हुआ; 'एहिइ  
सोवि पउत्थो अहं अ कुप्पेज्ज सोवि अणुणेज'  
(गा १७; ६६७; हेका ३०, पउम १७, ३;  
वजा ७६; विवे १३२; उव; दे ६, ६६;  
भवि) । 'वइया स्त्री [ पति-का ] जिसका  
पति देशान्तर गया हो वह स्त्री (श्रीप ४१३;  
सुपा ५०८) ।

पउद्व्य देखो पउंज ।

पउपपय देखो पओपपय (भग ११, ११ टी) ।

पउपपय देखो पओपपय = प्रवौचिक (भग  
११, ११ टी) ।

पउम न [ पद्म ] १ सूर्य-विकासी कमल (हे  
२, ११३; पएह १, ३; कम्प; श्रीप; प्रासू  
११३) । २ देव-विमान-विशेष (सम ३३;  
३५) । ३ संख्या-विशेष; 'पच्चांग' को चौरासी  
लाख से गुणने पर जो संख्या लव्व हो वह

(ठा २, ४; इक) । ४ गन्व-द्रव्य-विशेष (श्रौप; जीव ३) । ५ सुघर्मा सभा का एक सिंहासन (गाया २) । ६ दिन का नववाँ मुहूर्त (जो २) । ७ दक्षिण-रुचक-पर्वत का एक शिखर (ठा ८) । ८ पुं. राजा रामचन्द्र, सीता-पति (पउम १, ५; २५, ८) । ९ आठवाँ बलदेव, श्रीकृष्ण के बड़े भाई । १० इस अवसर्पिणीकाल में उत्पन्न नववाँ चक्रवर्ती राजा, राजा पद्मोत्तर का पुत्र (पउम ५, १५३; १५४) । ११ एक राजा का नाम (उप ६४८ टी) । १२ माल्यव नामक पर्वत का अविष्ठाता देव (ठा २, ३) । १३ भरतक्षेत्र में आगामी उत्सर्पिणी में उत्पन्न होनेवाला आठवाँ चक्रवर्ती राजा (सम १५४) । १४ भरत क्षेत्र का भावी आठवाँ बलदेव (सम १५४) । १५ चक्रवर्ती राजा का निधि, जो रोग-नाशक सुन्दर बलों की पूर्ति करता है (उप ६८६ टी) । १६ राजा श्रेणिक का एक पौत्र (निर २, १) । १७ एक जैन मुनि का नाम (कप्प) । १८ एक हृद (कप्प) । १९ पद्म-वृक्ष का अविष्ठाता देव (ठा २, ३) । २० महापद्म नामक जिनदेव के पास दीक्षा लेनेवाला एक राजा, एक भावी राजर्षि (ठा ८) । २१ गुम्भ न [गुल्म] १ आठवें देव-लोक में स्थित एक देव-विमान का नाम (सम ३५) । २ प्रथम देवलोक में स्थित एक देव-विमान का नाम (महा) । ३ पुं. राजा श्रेणिक का एक पौत्र (निर २, १) । ४ एक भावी राजर्षि, महापद्म नामक जिनदेव के पास दीक्षा लेनेवाला एक राजा (ठा ८) । ५ चरिय न [चरित] १ राजा रामचन्द्र की जीवनी—चरित्र । २ प्राकृत भाषा का एक प्राचीन ग्रंथ, जैन रामायण (पउम ११८, १२१) । ६ णाम पुं [नाभ] १ वासुदेव, विष्णु (पउम ४०, १) २ आगामी उत्सर्पिणी-काल में भरतक्षेत्र में होनेवाला प्रथम जिन-देव का नाम (पव ४६) । ३ कपिल-वासुदेव के एक माण्डलिक राजा का नाम (गाया १, १६—पत्र २१३) । ४ दल न [दल] कमल-पत्र (प्राक) । ५ दह पुं [द्रह] विविध प्रकार के कमलों से परिपूर्ण एक महान् हृद का नाम (सम १०४; कप्प; पउम १०२,

३०) । ६ द्वय पुं [ध्वज] एक भावी राजर्षि, जो महापद्म नामक जिनदेव के पास दीक्षा लेगा (ठा ८) । ७ नाह देखो णाम (उप ६४८ टी) । ८ पुर न [पुर] एक दक्षिणायत नगर, जो आजकल 'नासिक' नाम से प्रसिद्ध है (राज) । ९ प्पम पुं [प्रभ] इस अव-सर्पिणी काल में उत्पन्न पृथु जिन-देव का नाम (कप्प) । १० प्पभा स्त्री [प्रभा] एक पुष्करिणी का नाम (इक) । ११ प्पह देखो प्पम (ठा ५, १; सम ४३; पडि) । १२ भद्र पुं [भद्र] राजा श्रेणिक का एक पौत्र (निर २, १) । १३ मालि पुं [मालिन्] विद्यावर-वंश के एक राजा का नाम (पउम ५, ४२) । १४ मुह देखो पउमाणण (पड्) । १५ रथ पुं [रथ] १ विद्यावर-वंश का एक राजा (पउम ५, ४३) । २ मथुरा नगरी के राजा जयसेन का पुत्र (महा) । १६ राय पुं [राग] रक्त-वर्ण मण्डि-विशेष (१३६; १६६) । १७ राय पुं [राज] घातकीखण्ड की अपर-कंका नगरी का एक राजा, जिसने द्रौपदी का अपहरण किया था (ठा १०) । १८ रुक्ख पुं [वृक्ष] १ उत्तर-कुक्षेत्र में स्थित एक वृक्ष (ठा २, ३) । २ वृक्ष-सदृश बड़ा कमल (जीव ३) । ३ लया स्त्री [लता] १ कमलिनी, पद्मिनी (जीव ३; भग; कप्प) । २ कमल के आकारवाली वल्ली (गाया १, १) । ४ वडिसय, वडिसय न [वतंसक] पद्मावती-देवी का सौवर्म नामक देवलोक में स्थित एक विमान (राज; गाया २—पत्र २५३) । ५ वरवेइया स्त्री [वरवेदिका] १ कमलों की श्रेष्ठ वेदिका (भग) ३ जम्बू द्वीप की जगती के ऊपर रही हुई देवों की एक भोग-भूमि (जीव ३) । ६ वूह पुं [व्यूह] सैन्य की पद्माकार रचना (पएह १, ३) । ७ सर पुं [सरस्] कमलों से युक्त सरोवर (गाया १, १; कप्प; महा) । ८ सिरी स्त्री [श्री] १ अष्टम चक्र-वर्ती सुभूमराज की पटरानी (सम १५२) । २ एक स्त्री का नाम (कुमा) । ९ सेण पुं [सेन] १ राजा श्रेणिक के एक पौत्र का नाम, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (निर १, २) । २ नागकुमार-जातीय एक देव का नाम (दीव) । ३ सेहर पुं

[शेखर] पृथ्वीपुर नगर के एक राजा का नाम (धम्म ७) । ४ गार पुं [गार] १ कमलों का समूह । २ सरोवर (उप १३३ टी) । ३ सण न [सण] पद्माकार आसन (जं १) ।

पउमग पुंन [पद्मक] केसर (दस ६, ६४) । पउमप्पह पुं [पद्मप्रभ] विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का एक जैन आचार्य (विपा ३) ।

पउमा स्त्री [पद्मा] १ लक्ष्मी । २ देवी-विशेष । ३ लौंग, लवंग । ४ पुष्प-विशेष, कुसुम्भ-पुष्प (प्राक २८) ।

पउमा स्त्री [पद्मा] १ दोसवें तीर्थंकर श्री मुनिसुव्रतस्वामी की माता का नाम (सम १५१) । २ सौवर्म देवलोक के इन्द्र की एक पटरानी का नाम (ठा ८—पत्र ४२६; पउम १०२, १५६) । ३ भीम नामक राक्षसेन्द्र की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४) । ४ एक विद्यावर कन्या का नाम (पउम ६, २४) । ५ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, १०) । ६ लक्ष्मी (राज) । ७ वनस्पति-विशेष (पएण १—पत्र ३६) । ८ चौदहवें तीर्थंकर श्रीअनन्तनाथ की मुख्य शिष्या का नाम (पव ६) । ९ सुदर्शना-जम्बू की उत्तर दिशा में स्थित एक पुष्करिणी (इक) । १० दूसरे बलदेव और वासुदेव की माता का नाम । ११ लेश्या-विशेष (राज) ।

पउमाड पुं [दे] वृक्ष-विशेष, पमाड़ का पेड़ चकवड़ (दे ५, ५) ।

पउमाणण पुं [पद्मानन] एक राजा का नाम (उप १०३१ टी) ।

पउमाभ पुं [पद्माभ] पृथु तीर्थंकर का नाम (पउम १, २) ।

पउमार [दे] देखो पउमाड (दे ५, ५ टि) ।

पउमावई स्त्री [पद्मावती] १ जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत के पूर्व तरफ के रुचक पर्वत पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी-देवी (ठा ८) । २ भगवान् पार्श्वनाथ की शासन-देवी, जो नाग-राज धरणीन्द्र की पटरानी है (संति १०) । ३ श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम (श्रंत १५) । ४ भीम-नामक राक्षसेन्द्र की एक पटरानी (भग १०, ५) । ५ शक्रेन्द्र की एक

पटरानी (खाया २—पत्र २५३) । ६ चम्पे-  
श्वर राजा दधिवाहन की एक स्त्री का नाम  
(आव ४) । ७ राजा कृष्णिक की एक पत्नी  
(भग ७, ९) । ८ अयोध्या के राजा हरिसिंह  
की एक पत्नी (धम्म ८) । ९ तैतलिपुर के  
राजा कनककेतु की पत्नी (दंस १) । १०  
कौशाम्बी नगरी के राजा शतानीक के पुत्र  
उदयन की पत्नी (विपा १, ५) । ११ शैलक-  
पुर के राजा शैलक की पत्नी (खाया १, ५) ।  
१२ राजा कृष्णिक के पुत्र कालकुमार की  
भार्या का नाम । १३ राजा महावल की भार्या  
का नाम (निर १, १; ५; पि १३९) । १४  
वीसवें तीर्थंकर श्रीमुनिसुव्रतस्वामी की माता  
का नाम (पव ११) । १५ पुण्डरीकिणी  
नगरी के राजा महापद्म की पटरानी (आचू  
१) । १६ रम्यनामक विजय की राजधानी  
(जं ४) ।

पडमावती (अप) स्त्री [पद्मावती] छन्द-  
विशेष (पिंग) ।

पडमिणी स्त्री [पद्मिनी] १ कमलिनी,  
कमल-लता (कम्प; सुपा १५५) । २ एक धेड़ी  
की स्त्री का नाम (उप ७१८ टी) ।

पडमुत्तर पुं [पद्मोत्तर] १ नववें चक्रवर्ती  
श्रीमहापद्मराज के पिता का नाम (सम  
१५२) । २ मन्दर पर्वत के भद्रशाल वन का  
एक दिग्हस्ती पर्वत (इक) ।

पडमुत्तरा स्त्री [पद्मोत्तरा] एक प्रकार की  
शकर, खांड, चीनी (खाया १, १७—पत्र  
पण २२६; १७) ।

पडर वि [प्रचुर] प्रभूत, बहुत (हे १, १८०;  
कुमा; सुर ४, ७४) ।

पडर वि [पौर] १ पुर-संवन्धी, नगर से संवन्ध  
रखनेवाला । २ नगर में रहनेवाला (हे १,  
१६२) ।

पडरव पुं [पौरव] पुत्रनामक चन्द्र-वंशीय  
गुप्त का पुत्र (संज्ञि ६) ।

पडराण (अप) देखो पुराण (भवि) ।

पडरिस वि [पौरुषेय] पुरुष-कृत, पुरुष का  
बनाया हुआ; 'विदस्स तह यापडरिसभावा'  
(धम्मसं ८६२) ।

पडरिस पुं [पौरुष] पुरुषत्व, पुरुषार्थ,  
पडरुस } वीरता, मरदानी (हे १, १११;  
१६२); 'पडरुसा' (प्राप्र); 'पडरुस' (संज्ञि  
६) ।

पडल सक [पच्] पकाना । पडलइ (हे  
४, ९०; दे ६, २६) ।

पडलण न [पचन] पकाना, पाक (पएह १,  
१) ।

पडलिअ वि [पक्क] पक्का हुआ (पाप्र) ।

पडलिअ वि [प्रज्जलित] दग्ध, जला हुआ  
(उवा) ।

पडल्ल देखो पडल । पडल्लइ (पड; हे ४, ९०  
टि) ।

पडल्ल वि [पक्क] पका हुआ (पंचा १) ।

पडल्लग न [पचनक] रसोई का पात्र (दशवै०  
वृ० हारि० पत्र ६७, २) ।

पडविय वि [प्रकुपित] विशेष कुपित, क्रुद्ध  
(महा) ।

पडस सक [प्र + द्विप्] द्वेष करना । पड-  
सेजा (श्लो २५ भा) ।

पडसय वि [दे] देश-विशेष में उत्पन्न । स्त्री.  
°सिया (श्लोप) ।

पडस्स देखो पडस । पडस्ससि (कुप्र ३७७) ।  
वहू. पडस्संत, पडस्समाण (राज; अंत  
२२) । संक्र. पडस्सिऊण (स ५१३) ।

पडहण (अप) देखो पवहण (भवि) ।

पडुड न [दे] गृह, घर (दे ६, ४) ।

पए अ [प्रगे] पहले, पूर्व; 'तित्थगरवयण-  
करणे आयरिआणं कयं पए होइ' (श्लो ४७ भा); 'जइ पुण वियालपत्ता पए व पत्ता  
उवस्सयं न लभे' (श्लो १६८) ।

पएणियार पुं [प्रैणीचार] व्याध की एक  
जाति, जो हरिणों को पकड़ने के लिए  
हरिणी-समूह को चराते एवं पालते हैं (पएह  
१, १—पत्र १४) ।

पएर पुं [दे] १ वृत्ति-निवर, बाड़ का छिद्र ।  
२ मार्ग, रास्ता । ३ कंठदीनार नामक भूपण-  
विशेष । ४ गले का छिद्र । ५ दीननाद-आत्त-  
स्वर । ६ वि. दुश्शील, दुराचारी (दे ६,  
६७) ।

पएस पुं [दे] प्रातिवेशिक, पड़ोसी (दे ६,  
३) ।

पएस पुं [प्रदेश] १ जिसका विभाग न हो  
सके ऐसा सूदन-अवयव (ठा १, १) । २  
कर्म-दल का संचय (नव ३१) । ३ स्वान,  
जगह (कुमा ६, ५६) । ४ देश का एक भाग,  
प्रान्त (कुमा ६) । ५ परिमाण-विशेष, निरंश-  
अवयव-परिमित माप । ६ छोटा भाग । ७  
परमाणु । ८ द्व्यणुक । ९ त्र्यणुक, तीन  
परमाणुओं का समूह (राज) । १० कम्म न  
[कर्मन्] कर्म-विशेष, प्रदेश-रूप कर्म  
(भग) । ११ गग न [ग] कर्मों के दलिकों का  
परिमाण (भग) । १२ घण वि [घन] निविड  
प्रदेश (श्लोप) । १३ णाम न [नामन्] कर्म-  
विशेष (ठा ६) । १४ णाम पुं [नाम] कर्म-  
द्रव्यों का परिणाम (ठा ६) । १५ वंध पुं  
[वन्ध] कर्म-दलों का आत्म-प्रदेशों के साथ  
संवन्धन (सम ६) । १६ संकम पुं [संक्रम]  
कर्म-द्रव्यों को भिन्न स्वभाव-वाले कर्मों के रूप  
में परिणत करना (ठा ४, २) ।

पएसण न [प्रदेशान] उपदेश, 'पएसणयं  
एगम उवएसो' (आचू १) ।

पएसय वि [प्रदेशक] उपदेशक, प्रदर्शक;  
'सिद्धिपहपएसए वंदे' (वित्से १०२५) ।

पएसि पुं [प्रदेशिन्] स्वनाम-ख्यात एक  
राजा, जो श्री पाथंथाय भगवान् के केशि-  
नामक गणधर से प्रवृद्ध हुआ था (राय; कुप्र  
१४५; आ ६) ।

पएसिणी स्त्री [दे] पड़ोस में रहनेवाली स्त्री;  
पड़ोसिनी (दे ६, ३ टी) ।

पएसिणी स्त्री [प्रदेशिनी] अंगुष्ठ के पास  
की उंगली, तर्जनी (श्लो ३६०) ।

पएसिय देखो पदेसिय (राज) ।

पओअ पुं [पयोद] मेघ (दस ७, ५२) ।

पओअ देखो पओग (हे १, २४५; अभि ६;  
सण; पि ८५) ।

पओअण न [प्रयोजन] १ हेतु, निमित्त,  
कारण (सुप्र १, १२) । २ कार्य, काम ।  
३ मतलब (महा; उत २३; स्वप्न ४८) ।

पओइद (शौ) वि [प्रयोजित] जिसका  
प्रयोग कराया गया हो वह (नाट—विक्र  
१०३) ।

पओग पुं [प्रयोग] प्रयोजन (सुप्र २, ७, २) ।

पओग पुं [प्रयोग] १ शब्द-योजना (भास ६३)। २ जीव का व्यापार, चेतन का प्रयत्न: 'उप्यायो दुविगण्यो पओगजण्णियो य विस्ततो चैव' (सम २५; ठा ३, १; सम्म १२६; स ५२४)। ३ प्रेरणा (आ १४)। ४ उपाय (आच १)। ५ जीव के प्रयत्न में कारण-भूत मन आदि (ठा ३, ३)। ६ वाद-विवाद, शास्त्रार्थ (दसा ४)। °कम्म न [°कर्मन] मन आदि की चेष्टा से आत्म-प्रदेशों के साथ बँधनेवाला कर्म (राज)। °करण न [°करण] जीव के व्यापार द्वारा होनेवाला किसी वस्तु का निर्माण: 'होइ उ एणो जीवव्वावारो तेण जं विणिम्माणं पओगकरणं तयं बहुहो' (वित्ते)। °किरिया लो [°किरिया] मन आदि की चेष्टा (ठा ३, ३)। °फड्डय न [°सपर्धक] मन आदि के व्यापार-स्वान की वृद्धि-द्वारा कर्म-परमाणुओं में बढ़नेवाला रस (कम्मप २३)। °बंध पुं [°बन्ध] जीव-प्रयत्न द्वारा होनेवाला बन्धन (भग १८, ३)। °मइ लो [°मति] वाद-विषयक-परिज्ञान (दसा ४)। °संपया लो [°संपत्] आचार्य का वाद-विषयक सामर्थ्य (ठा ८)। °सा अ [प्रयोगेण] जीव-प्रयत्न से (पि ३६४)।

पओज देखो पउंज = प्र + युज्। पओजए (पव ६४)।

पओजग वि [प्रयोजक] विनिश्चायक, निर्णायक, गमक (धम्मसं १२२३)।

पओट्ट देखो पउट्ट = प्रकोष्ठ (प्राप्र; औप; पि ८४)।

पओत्त न [प्रतोत्र] प्रतोद, प्राजन-यष्टि, पेना। °धर पुं [°धर] दैलगाड़ी हाकनेवाला, बहल-वान या गाड़ीवान (एया १, १)।

पओद् पुं [प्रतोद्] ऊपर देखो (औप)।

पओप्पय पुं [प्रपौत्रक] १ प्रपौत्र, पौत्र का पुत्र। २ प्रशिष्य का शिष्य; 'तेणं कालेणं तेणं तमएणं विमलस्स अरुह्यो पओप्पए धम्मघासे नामं धएणारे' (भग ११, ११—पत्र ५४८)।

पओप्पिय पुं [दे. प्रपौत्रिक] १ वंश-परम्परा। २ शिष्य-संतति, शिष्य-संतान (भग ११, ११—पत्र ५४८ टी)।

पओरासि पुं [पयोराशि] समुद्र (सम्मत् १७४)।

पओल पुं [पटोल] पटोल, परवर, परोरा (परए १)।

पओली लो [प्रतोली] १ नगर के भीतर का रास्ता (अणु)। २ नगर का दरवाजा: 'गोठरं पओली य' (पाअ; सुपा २६१; आ १२; उप पृ ८५; भवि)।

पओवट्टाय देखो पज्जवत्थाय। पओवट्टावेहि (पि २८४)।

पओवाह पुं [पयोवाह] मेघ, बादल (पउम ८, ४६; से १, २४; सुर २, ८५)।

पओस सक [प्र + द्विप्] द्वेप करना, वैर करना। पओसइ (सुत्त १, १४)।

पओस पुं [दे. प्रद्वेप] प्रद्वेप, प्रकृष्ट द्वेप (ठा १०; अंत: राय; आब ४; सुर १५, ५८; पुष्क ४६५, कम्म १; महानि ४, कुप्र १०; स ६६६)।

पओस पुंन [प्रदोष] १ सन्ध्याकाल, दिन और रात्रि का सन्धि-काल (से १, ३४; कुमा)। २ वि. प्रभूत दोषों से युक्त (से २, ११)।

पओहण (अप) देखो पवहण (भवि)।

पओहर पुं [पयोधर] १ स्तन, धन (पाअ; से १, २४; गउड; सुर २, ८५)। २ मेघ-बादल (वजा १००)। ३ छन्द-विशेष (पिन)।

पंक पुंन [पङ्क] १ कर्दम, कीचड़, कादा, कादो, कीच; 'धम्ममितीपि नो लग्गं पंकं व गयणंणं' (आ २८; हे १, ३०; ४; ३५७, प्राप् २५); 'सुसइ व पंकं' (वजा १३४)। २ पाप (सुअ २, २)। ३ असंयम, इन्द्रिय वगैरह का अतिग्रह (निचू १)। °आवलिआ लो [°वलिआ] छन्द-विशेष (पिन)। °पभा लो [°प्रभा] चौथी नरक-भूमि (ठा ७; इक)। °वहुल वि [°वहुल] १ कर्दम-प्रचुर (सम ६०)। २ पाप-प्रचुर (सुअ २, २)। ३ पुंन-रत्नप्रभा नामक नरक-भूमि का प्रथम कारड (जीव ३)। °य त [°ज] कमल, पद्म (हे ३, २६; गउड; कुमा)। °वई लो [°वती] नदी-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०)।

पंकज देखो पंक-य (सम्मत् ११८)।

पंका लो [पङ्का] चौथी नरक-भूमि (इक; कम्म ३, ५)।

पंकाभा लो [पङ्काभा] चौथी नरक-दुर्धिवी (उत्त ३६, १५८)।

पंकावई लो [पङ्कावती] पुष्कल नामक विजय के पश्चिम तरफ की एक नदी (इक; जं ४)।

पंक्रिय वि [पङ्कित] पंक-युक्त, कीचवाला (भग ३, ३; भवि)।

पंक्रिल वि [पङ्किल] कर्दमवाला (आ २८; गा ७६६; कप्प; कुप्र १८७)।

पंकेरुह न [पङ्केरुह] कमल, पद्म (कप्प; कुप्र १४१)।

पंख पुंलो [पक्ष] १ पंख, पांखि, पांख, पक्ष (पि ७४; राय; पउम ११; ११८; आ १४)। २ पनरह दिन, पखवाड़ा (राज)। °सण न [°सन] आसन-विशेष (राय)।

पंखि पुंलो [पक्षिन्] पंखी, चिड़िया, पक्षी (आ १४)। लो. °णी (पि ७४)।

पंखुडिआ } लो [दे] पंख, पत्र (कुप्र २६;  
पंखुडी } दे ६, ८)।

पंग सक [प्रह] ग्रहण करना। पंगइ (हे ४, ४०६)।

पंगण न [प्राङ्गण] आंगन (कुप्र २५०)।

पंगु वि [पङ्गु] पाद-विकल, खड्ग, लंगड़ा, लूला, खोड़ा (पाअ; पि ३८०; पिन)।

पंगुर सक [प्रा + वृ] ढकना, आच्छादन करना। पंगुरइ (भवि)। संकृ. पंगुरि वि (भवि)।

पंगुरण न [प्रावरण] वस्त्र, कपड़ा (हे १, १७५; कुमा; गा ७८२)।

पंगुल वि [पङ्गुल] देखो पंगु (विपा १, १; सं ७५; पाअ)।

पंच वि. व. [पञ्चन्] पांच, ५ (हे ३, १२३; कप्प; कुमा)। °उल न [°कुल] पंचायत (स २२२)। °उलिय पुं [°कुलिक] पंचायत में बैठ कर विचार करनेवाला (स २२२)। °कत्तिय पुं [°कृत्तिक] भगवान् कुन्दुनाय, जिनके प्रांचों कल्याणक कृत्तिका नक्षत्र में हुए थे (ठा ५, १)। °कप्प पुं [°कल्प] श्रीभद्रबाहुस्वामि-कृत प्राचीन ग्रन्थ का नाम (पंचभा)। °कल्याणय न [°कल्याणक] १ तीर्थंकर का च्यवन, जन्म, दीक्षा,

केवलज्ञान और निर्वाण । २ काम्पिल्यपुर, जहाँ तेरहवें जिन-देव श्रीविमलनाय के पाँचों कल्याणक हुए थे (तो २४) । ३ तप-विशेष (जीत) । ४ कोट्टक वि [कोट्टक] १ पाँच कोट्टों से युक्त । २ पुं. पुष्य (तंदु) । १ गन्ध न [गन्ध] गाय के ये पाँच पदार्थ—दूध, दही, घृत, गोमय और मूत्र, पंचगव्य (कम्पू) । १ ग्राह न [ग्राह] गाथाछन्द वाले पाँच पद्य (कस्त) । १ गुण वि [गुण] पाँचगुणा (ठा ५, ३) । १ चित्त पुं [चित्त] पष्ठ जिन-देव श्रीपद्मप्रभ, जिनके पाँचों कल्याणक चित्रा नक्षत्र में हुए थे (ठा ५, १; कम्प) । १ जाम न [जाम] १ ग्रहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और त्याग ये पाँच महाव्रत । २ वि. जिसमें इन पाँच महाव्रतों का निरूपण हो वह (ठा ९) । १ णउइ वी [नवति] पंचानवे, ६५ (काल) । १ णउय वि [नवत] ६५ वां (काल) । १ ताळीस (अप) वीन [चत्वारिंशत्] पैतालीस, ४५ (पिग; पि ४४५) । १ तिल्ली वी [तीर्थी] पाँच तीर्थों का समुदाय (धर्म २) । १ तीसइम वि [त्रिंशत्तम] पैतीसवाँ, ३५ वां (परण ३५) । १ दस वि. व. [दशान्] पनरह, १९ (कम्पू) । १ दसम वि [दशम] पनरहवाँ, १५ वां (राया १, १) । १ दसी वी [दशी] १ पनरहवाँ, १५ वां (वित्ते ५७९) । २ पूणिमा । ३ अमावास्या (सुल १०) । १ दसुत्तरसय वि [दशोत्तरशत-तम] एक सौ पनरहवाँ, ११५ वां (पउम ११५, २४) । १ नउइ देवो णउइ (पि ४४७) ; नाणि वि [ज्ञानिन्] मति, श्रुत, श्रवधि, मनःप्रयव और केवल इन पाँचों ज्ञानों से युक्त, सर्वज्ञ (सम्म ६९) । १ पव्वी वी [पवी] मास की दो अष्टमी, दो चतुदशे और शुक्ल पंचमी ये पाँच तिथियाँ (रयण २६) । १ पुव्वासाढ पुं [पूर्वाषाढ] दसवें जिनदेव श्रीशीतलनाय, जिनके पाँचों कल्याणक पूर्वाषाढ-नक्षत्र में हुए थे (ठा ५, १) । १ पूस पुं [पुष्य] पनरहवें जिनदेव श्रीधर्मनाय (ठा, ५, १) । १ वाण पुं [वाण] कामदेव (सुर ४, २४६; कुमा) । १ भूय न [भूत] पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और

आकाश ये पाँच पदार्थ (सूत्र १, १, १) । १ भूयवाइ वि [भूतवादिन्] आत्मा आदि पदार्थों को न मान कर केवल पाँच भूतों को ही माननेवाला, नास्तिक (सूत्र १, १, १) । १ महव्वइय वि [महाव्रतिक] पाँच महाव्रतोंवाला (सूत्र २, ७) । १ महव्वय न [महाव्रत] हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, और परिग्रह का सर्वथा परित्याग (परह २, ५) । १ महाभूय न [महाभूत] पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पाँच पदार्थ (वित्ते) । १ मुट्टिय वि [मुष्टिक] पाँच मुष्टियों का, पाँच मुष्टियों से पूर्ण किया जाता (लोच) (राया १, १; कम्प, महा) । १ मुह पुं [मुख] सिंह, पंचानन (उप १०३१ टी) । १ यसी देवो दसी (पउम ६६, १४) । १ रत्त; राय पुं [रात्र] पाँच रात (मा ४३; परह २, ५—पत्र १४९) । १ रासिय न [राशिक] गणित-विशेष (ठा ४, ३) । १ रूविय वि [रूपिक] पाँच प्रकार के बणुंवाला (ठा ४, ४) । १ वल्युग न [वस्तुक] आचार्य हरिभद्रसूरि-रचित ग्रन्थ-विशेष (पंचव १, १) । १ वरिस वि [वर्ष] पाँच वर्षों की अवस्थावाला (सुर २, ७३) । १ विह वि [विध] पाँच प्रकार का (अणु) । १ वीसइम वि [विंशतितम] पचासवाँ (पउम २५, २६) । १ संगह पुं [संग्रह] आचार्य श्रीहरिभद्रसूरि-कृत एक जैन ग्रन्थ (पंच १) । १ संवच्छरिय वि [सांघत्सरिक] पाँच वर्षों परिमाणवाला, पाँच वर्षों की आयुवाला (सम ७५) । १ सट्ट वि [पट] पैसठवाँ, ६५ वां (पउम ६५, ५१) । १ सट्टि वी [पट्टि] पैसठ, ६५ (कम्प) । १ समिय वि [समित] पाँच समितियों का पालन करनेवाला (सं ८) । १ सर पुं [शर] कामदेव (पाग्र; सुर २, ६३; सुपा ६०, रंभा) । १ सीस पुं [शीर्ष] देव-विशेष (देव) । १ सुणं न [शून्य] पाँच प्राणिवध-स्थान (सूत्र १, १, ४) । १ सुत्तग न [सुत्रक] आचार्य श्रीहरिभद्रसूरि-निर्मित एक जैन ग्रन्थ (पसु १) । १ सेल; सेलगा; सेलय पुं [शैल; क] लवणोदधि में स्थित और पाँच पर्वतों

से विभूषित एक छोटा द्वीप (महा; वृह ४) । १ सोगधिअ वि [सौगन्धिक] इलायची, लवंग, कपूर, कंकौल और जातीफल—जायफल इन पाँच सुगन्धित वस्तुओं से संस्कृत; 'नवत्य पञ्चसोगधिणं तंबोलेणं, अवसेसमुहवासविहि पचक्कामि' (उवा) । १ हत्तर वि [सप्रत] पचहत्तरवाँ, ७५ वां (पउम ७५, ८६) । १ हत्तरि वी [सप्रति] १ संख्या विशेष, ७५ । २ जिनकी संख्या पचहत्तर हो वे (पि २६४; कम्प) । १ हत्थुत्तर पुं [हस्तोत्तर] भगवान् महावीर, जिनके पाँचों कल्याणक उत्तराफाल्गुनी-नक्षत्र में हुए थे (कम्प) । १ उइ पुं [युध] कामदेव (सण) । १ णउइ वी [नवति] १ संख्या-विशेष, पंचानवे, ६५ । २ जिनकी संख्या पंचानवे हो वे (सम ६७; पउम २०, १०३; पि ४४०) । १ णउय वि [नवत] पंचानवाँ, ६५ वां (पउम ६५, ६६) । १ णग पुं [णन] सिंह, गजेन्द्र (सुपा १७६; भवि) । १ णुव्वइय वि [णुव्वतिक] हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह का आंशिक त्यागवाला (उवा; औप, राया १, १२) । १ याम देवो जाम (वृह ६) । १ स वीन [शत] १ संख्या-विशेष, पचास, ५० । २ जिनकी संख्या पचास हो वे; 'पंचासं अजियासाहस्तीयो' (सम ७०) । १ सग न [शक] आचार्य श्रीहरिभद्रसूरि-कृत एक जैन ग्रन्थ (पंचा) । १ सीइ वी [शीति] १ संख्या-विशेष, अस्सी और पाँच, ८५ । २ जिनकी संख्या पचासी हो वे (सम ६२; पि ४४६) । १ सीइम वि [शीतितम] पचासीवाँ, ८५ वां (पउम ८५, ३१; कम्प; पि ४४९) । पंचअण्ण देवो पंचजण्ण (गउड) । पंचंग न [पञ्चाङ्ग] १ दोहाय; दो जानु और मस्तक ये पाँच शरीरावयव । २ वि, पूर्वोक्त पाँच अंगवाला (प्रणाम आदि); 'पंचंगं करिय ताहे पणियाय' (सुर ४, ६८) । पंचंगुलि पुं [दि] एरएड-वृक्ष, रेंडी का गाढ़ (दि ६, १७) । पंचंगुलि पुं [पञ्चागुलि] हस्त, हाथ (शाय १; १; कम्प) ।

पंचगुणिका ली [ पञ्चाङ्गुलिका ] बल्लो-  
विशेष (पर्या १—पत्र ३३)।

पंचग वि [ पञ्चक ] पांच (त्वया आदि) की  
कीमत का (दसति ३, १३)।

पंचग न [ पञ्चक ] पांच का समूह (आचा)।

पंचजण पुं [ पाञ्चजन्य ] श्रीकृष्ण का शंख  
(काप्र ८६२; गा ६७४)।

पंचत्त } न [ पञ्चत्व ] ? पांचपत्त, पञ्च-  
पंचत्त } ह्यता (सुर १, ५)। २ मरण,  
मौत (सुर १, ५; सण; उप पृ १२४)।

पंचपुंड वि [ पञ्चपुण्ड ] पांच स्थानों में  
पुरइ-चिह्न (सफेदी) वाला (पिंड भा ४३)।

पंचपुल पुं न [ दे ] मत्स्य-व्यवन विशेष,  
मछली पकड़ने का जाल-विशेष (विपा १,  
८—पत्र ८५ टी)।

पंचम वि [ पञ्चम ] ? पांचवाँ (उवा)। २  
पुं. स्वर-विशेष (ठा ७)। °धारा ली  
[ °धारा ] अरव की एक तरह की गति  
(महा)।

पंचमहद्भूइअ वि [ पाञ्चमहाभूतिक ]  
पांच महाभूतों को माननेवाला, सांख्यमत  
का अनुयायी (सूअ २, १, २०)।

पंचमासिअ वि [ पाञ्चमासक ] ? पांच  
मास की उन्न का। २ पांच मास में पूर्ण  
होनेवाला (अग्निग्रह आदि)। ली. °आ  
(सम २१)।

पंचमिय वि [ पाञ्चमिक ] पांचवाँ, पंचम  
(शोध ६१)।

पंचमी ली [ पञ्चमी ] ? पांचवाँ (प्रामा)।  
२ तिथि-विशेष, पंचमी तिथि (सम २३;  
आ २८)। ३ व्याकरण-प्रसिद्ध अपादान  
विभक्ति (अणु)।

पंचयन्न देखो पञ्चजण (शाया १, १६;  
सुपा २६४)।

पंचलोइया ली [ पञ्चलौकिका ] भुजपरिसर्प-  
विशेष, हाथ से चलनेवाले सर्प-जातीय प्राणी  
को एक जाति (जीव २)।

पंचवडी ली [ पञ्चवटी ] पांच बट-बुलवाला  
एक स्थान, जहाँ श्रीरामचन्द्रजी ने अपने  
वनवास के समय यात्रास किया था, इस स्थान  
का अस्तित्व कई लोग 'नायिक' नगर के

पास गोदावरी नदी के किनारे मानते हैं, जब  
कि आधुनिक गवेषक लोग बस्तर रजवाड़े के  
दक्षिणी छोर पर, गोदावरी के किनारे, इसका  
होना सिद्ध करते हैं (उत्तर ८१)।

पंचवयण पुं [ पञ्चवदन ] सिंह, नृगराज  
(सम्मत १३८)।

पंचामय न [ पञ्चामृत ] ये पांच वस्तु—दही;  
दूध, घी, मधु तथा शकर (सिदि २१८)।

पंचाल पुं [ पाञ्चाल ] कामशास्त्र-प्रणेता एक  
ऋषि (सम्मत १३७)।

पञ्चाल पुं. व. [ पञ्चाल, पाञ्चाल ] ? देश-  
विशेष, पञ्जाब देश (शाया १, ८; महा-  
पर्या १)। २ पुं. पञ्जाब देश का राजा  
(भवि)। ३ छन्द-विशेष (पिण)।

पंचालिआ ली [ पञ्चालिका ] पुतली, काष्ठादि-  
निर्मित छोटी प्रतिमा (कपू)।

पंचालिआ ली [ पाञ्चालिका ] ? दुपद-राज  
की कन्या, द्रौपदी (बेला १५८)। २ गान  
का एक भेद (कपू)।

पंचावण } लीन [ दे. पञ्चपञ्चारात् ] ?  
पंचावन्न } संख्या-विशेष, पंचपत्त, ५५।  
२ जिनकी संख्या पंचपत्त होवे (हे २, १७४;  
दे २, २७; दे २, २७ टि)।

पंचावन्न वि [ दे. पञ्चवञ्चाश ] पंचपत्तवाँ  
(पजम ५५, ६१)।

पंचिद्रिय } वि [ पञ्चेन्द्रिय ] ? वह जीव  
पंचिद्रिय } जिसकी त्वचा, जीभ, नाक,  
श्रांत्र और कान ये पांचो इन्द्रियाँ हैं (पर्या  
१; कपू; जीव १; भवि)। २ न. त्वचा  
आदि पांच इन्द्रियाँ (वर्म ३)।

पंचिया ली [ पञ्चिका ] ? पांच की संख्या-  
वाला। २ पांच दिन का (वव १)।

पंचुवर लीन [ पञ्चोदुम्बर ] बट, पीपल,  
उदुम्बर, प्लत और काकोदुम्बरी का फल  
(भवि)। ली. °री (आ २०)।

पंचुत्तरसय वि [ पञ्चोत्तरशततम ] एक  
सौ पांचवाँ, १०५ वाँ (पजम १०५, ११५)।

पंचेडिय वि [ दे ] विनाशित, 'जैण लोयस्त  
लोहत्तणं फेडियं दुहुकंदप्पदपं च पंचेडियं'  
(भवि)।

पंचेसु पुं [ पञ्चेषु ] कामदेव, कंदर्प (कपू;  
रंभा)।

पंडि पुं [ पक्षिन् ] पंखों, पक्षी, पक्षेण,  
चिड़िया (उप १०३१ टी)।

पंजर पुं [ पञ्जर ] ? आचार्य, उपाध्याय,  
प्रवक्तृ आदि मुनि-गण। २ उन्मार्ग-गमन-  
निषेध, सम्मार्ग-प्रवर्तन। ३ स्वच्छ-वृत्ता-प्रति-  
षेध (वव १)।

पंजर न [ पञ्जर ] पिजरा, पिजड़ा (गउड,  
कपू; ग्रन्थ २)।

पंजरिय पुं [ दे ] जहान का कर्मचारी-विशेष  
(सिदि ४२७)।

पंजरिय वि [ पञ्जरित ] पिजर में बंद किया  
हुआ (गउड)।

पंजल वि [ प्राञ्जल ] सरल, सीधा, ऋजु  
(सुपा ३६४; वजा ३०)।

पंजलि पुं ली [ प्राञ्जलि ] प्रणाम करने के लिए  
जोड़ा हुआ कर-संपुट, हस्त-न्यास-विशेष,  
संपुक्त कर-द्वय (उवा)। °उड पुं [ पुट ]  
अञ्जलि-मुट, संपुक्त कर-द्वय (सम १५१,  
श्रीम)। °उड, °कड वि [ कृतप्राञ्जलि ]  
जिसने प्रणाम के लिए हाथ जोड़ा हो वह  
(भग; यौप)।

पंजिअ न [ दे ] यथेच्छ दान, मुँह-मांगा दान;  
'रायकुलेषु नमंती पंजिप्रदाणं पणिएहेइ'  
(सिदि ११८)।

पंड वि [ पाण्ड्य ] देश-विशेष में उत्पन्न।  
ली. °डी; 'पंडीणं गंडवालीपुलअणचवला'  
(कपू)।

पंड पुं [ पण्ड, °क ] ? नपुंसक, क्लीब  
पंडग } (शोध ४६७; सम १५; पाप्र)। २  
पंडय } न. नेत्र-पर्वत का एक वन (ठा २,  
३; इक)।

पंडय देखो पंडय (हे १, ७०)।

पंडर पुं [ पाण्डर ] ? क्षीरकर नामक द्वीप का  
अधिष्ठाता देव (राज)। २ श्वेत वर्ण, सफेद  
रंग। ३ वि. श्वेतवर्णवाला, सफेद (कपू)।  
°भिकखु पुं [ °भिक्षु ] श्वेतान्तर जैन संप्रदाय  
का मुनि (स ५५२)।

पंडर देखो पंडर (त्वप्न ७१)।

पंडरंग पुं [ दे ] उद, महादेव, शिव (दे ६,  
२३)।

पंडरंगु पुं [ दे ] ग्रामेश, गाँव का अधिपति  
(पड)।

पंडरिय देखो पंडुरिय (भवि)।

पंडव पुं [पाण्डव] राजा पाण्डु का पुत्र—१ युधिष्ठिर, २ भीम, ३ अर्जुन, ४ सहदेव और ५ नकुल (राया १, १६; उप ६४८-टी)।

पंडव पुं [दे] अरुण-रत्नक (?) : सिद्धि सुहृदेहि तासियपंडववयणेहि नखरो ल्हो (सम्मत २१६)।

पंडविअ वि [दे] जलाद्र, पानी से भोजा हुआ (दे ६, २०)।

पंडिअ वि [पण्डित] १ विद्वान्, शास्त्रों के मर्म को जाननेवाला, बुद्धिमान्, तत्त्वज्ञः 'कामउभया एामं गणिया होत्वा वावत्तरी-कलापण्डिया' (विपा १, २; प्रासू ७४; १२६)। २ संयत, साधु (सूत्र १, ८, ६)। ३ मरण न [मरण] साधु का मरण, शुभ मरण-विशेष (भग; पञ्च ४६)। ४ माण वि [मन्मथ] विद्याभिमानी, निज को परिणत माननेवाला, दुविदग्ध, अधपका, मूर्ख, अनाड़ी (श्लो २७ ना)। ५ माण वि [मानिन्] देवों पूर्वोक्त अर्थ (पउम १०५, २१; उप १३४ टी)। ६ वीरिअ न [वीर्य] संयत का आत्म-बल (भग)।

पंडिअमाणि वि [पाण्डित्यमानिन्] पंडिताई का अभिमान रखनेवाला, विद्वत्ता का धर्म रखनेवाला (चद्व १६)।

पंडिअ } न [पाण्डित्य] परिणताई, पंडित्त } विद्वत्ता, वेदुष्य (उच; सुर १२, ६८; सुपा २६; रभा; सं ५७)।

पंडी देखो पंड = पाण्डव।

पंडीअ (अप) देखो पंडिअ (पिंग)।

पंडु पुं [पाण्ड] १ नृप-विशेष, पाण्डवों का पिता (उप ६४८ टी; सुपा २७०)। २ रोग-विशेष, पाण्डुरोग (जं १)। ३ वर्ण-विशेष, शुक्ल और पीत वर्ण। ४ श्वेत वर्ण। ५ वि. शुक और पीतवर्णवाला (कप्प; गउड)। ६ सफेद, श्वेत; सिअं सिअं बलकलं अरुवार्थ पंडुं धवलं च (पाथ; गउड)। ७ शिला-विशेष, पाण्डुकम्बला नामक शिला (जं ४; इक)। कम्बलसिला स्त्री [कम्बलशिला] मेरु पर्वत के पाण्डुक वन के दक्षिण छोर पर स्थित एक शिला, जिस पर जिन-देवों का जन्माभिषेक किया जाता है (जं ४)।

कम्बला स्त्री [कम्बला] वही पूर्वोक्त अर्थ (ठा २, ३)। १ तणय पुं [तनय] पाण्डु-राज का पुत्र, पाण्डव (गउड ४८५)। २ भद्र पुं [भद्र] एक जैन मुनि, जो आर्य संभूति-विजय के शिष्य थे (कप्प)। ३ मट्टिया, मत्तिया स्त्री [मृत्तिका] एक प्रकार की सफेद मिट्टी (जीव १; पण १—पत्र २५)। ४ महुरा स्त्री [मथुरा] स्वनाम-व्यात एक नगरी, पाण्डवों द्वारा बनाई हुई भारतवर्ष के दक्षिण तरफ की एक नगरी का नाम (राया १, १६—पत्र २२५; अंत)। ५ राच पुं [राज] राजा पाण्डु, पाण्डवों का पिता (राया १, १६)। ६ सुय पुं [सुत] पाण्डव (उप ६४८ टी)। ७ सेण पुं [सेन] पाण्डवों का द्रौपदी से उत्पन्न एक पुत्र (राया १, १६; उप ६४८-टी)।

पंडुइय वि [पाण्डुकिंत] १ श्वेत रंग का किया हुआ (राया १, १—पत्र २८)।

पंडुग } पुं [पाण्डक] १ चक्रवर्ती का वायव्यो पंडुय } की पूति करनेवाला एक निधि (राज; ठा २, १—पत्र ४४; उप ६८६ टी)। २ सर्प की एक जाति (आचू १)। ३ न. मेरु पर्वत पर स्थित एक वन, पाण्डुकवन (सम ६६)।

पंडुर पुं [पाण्डुर] १ श्वेत वर्ण, सफेद रंग। २ पीत-मिश्रित श्वेत वर्ण। ३ वि. सफेद वर्ण-वाला। ४ श्वेत-मिश्रित पीत वर्णवाला (कप्प; उच; से ८, ४६)। ५ ज्जा स्त्री [या] एक जैन साध्वी का नाम (आवम)। ६ स्थिय [स्थिक] एक गांव का नाम (आचू १)।

पंडुरंग पुं [पाण्डुराङ्ग] संन्यासी की एक जाति, मत्स्य लगानेवाला संन्यासी (अणु २४)।

पंडुरग } पुं [पाण्डुरक] १ शिव-भक्त पंडुरय } संन्यासियों की एक जाति (राया १, १५—पत्र १६३)। २ देवों पंडुर; किसान पंडुरया हवति ते (उत्त ३)।

पंडुरिअ } वि [पाण्डुरित] पाण्डुर वर्ण-पंडुइय } वाला बना हुआ (गा ३८८; विपा १, २—पत्र २७)।

पंत वि [पान्त] १ अन्तवर्ती, अन्तिम (भग ६; ३३)। २ अशोभन, असुन्दर (आचा; १, ५; धम्म ६ टी)।

श्रोत्र १७ भा)। ३ इन्द्रियों के अननुकूल इन्द्रिय-प्रतिकूल (परह २, ५)। ४ अभद्र, असभ्य, अशिष्ट (श्लो ३६ टी)। ५ अपसद, नीच, दुष्ट (राया १, ८)। ६ दरिद्र, निर्धन (श्लो ६१)। ७ जीर्ण, फटा-टूटा; पत-वत्य— (वह २)। ८ व्यापन्न, विनष्ट; गण्णावचणगमाई अंत; पंतं च होइ वावन्नं (वह १; आचा)। ९ नीरस, सूखा (उत्त ८)। १० मुक्तावशिष्ट, खा लेने पर बचा हुआ। ११ पयुपित, वासी (राया १, ५—पत्र १११)। १२ कुल न [कुल] नीच कुल, जघन्य जाति (ठा ८)। १३ चर वि [चर] नीरस आहार की खोज करनेवाला तपस्वी (परह २, १)। १४ जीवि वि [जीविन्] नीरस आहार से शरीर-निर्वाह करनेवाला (ठा ५, १)। १५ हार वि [हार] खूना-सूखा आहार करनेवाला (ठा ५, १)।

पंताय सक [दे] ताड़न करना, मारना। पंतावे (पिड ३२५)।

पंति स्त्री [पंक्ति] १ पंक्ति, श्रेणी, कतार (हे १, २५; कुमा; कप्प)। २ सेना-विशेष, जिसमें एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पांच पदाती हों ऐसी सेना (पउम ५६, ४)।

पंति स्त्री [दे] बेगी, केश-रचना (दे ६, २)। पंतिय स्त्रीन [पंक्ति] पंक्ति, श्रेणी; सराणि वा सरपंतियाणि वा सरसरपंतियाणि वा (आचा २, ३, ३, २)। स्त्री. 'पंतियाओ' (अणु)।

पंथ पुं [पन्थ, पथिन्] मार्ग, रास्ता; 'पंथं किर देसिता' (हे १, ८८), 'पंथम्मि पह-परिम्भट्ट' (सुपा ५५०; हेका ५४; प्रासू १७३)।

पंथ पुं [पान्थ] पथिक, मुसाफिर (हे १, ३०; अचू ७४)। १ कुट्टण न [कुट्टन] मार-पीटकर मुसाफिरों को लूटना (राया १, १८)। २ कोट्ट पुं [कुट्ट] वही अर्थ (विपा १, १—पत्र ११)। ३ कोट्टि स्त्री [कुट्टि] वही अर्थ; से चोरसेणावई गामधायं वा जावं पंथकोट्टि वा काउं वचति (राया १, १८)। पंथंग पुं [पान्थक] एक जैन मुनि (राया १, ५; धम्म ६ टी)।



पंथाण देखो पंथ = पन्थ, पथिन्; 'पंथान्नाले पंथान्नाले' (आउ ११)।

पंथिअ पुं [पन्थिक, पथिक] मुसाफिर, पान्थ; 'पंथिअ एं एत्य संयर' (काप्र १५८; महा; कुमा; राया १, ८; वजा २०; १५८)।

पंथुच्छुहणी व्री [दि] श्वशुर-गृह से पहली वार आनीत व्री (दि ६, ३५)।

पंपुअ वि [दि] दीर्घ, लम्बा (दि ६, १२)।

पंपुल्ल वि [प्रफुल्ल] विकसित (पिं)।

पंपुल्लिअ वि [दि] गवेपित, जिसकी खोज की गई हो वह (दि ६, १७)।

पंस चक [पांसय्] मलिन करना। पंसेई (विसे ३०५२)।

पंसण वि [पांसन] कलंकित करनेवाला, दूषण लगानेवाला (हे १, ७०; सुपा ३४५)।

पंसु पुं [पांसु, पांशु] धूली, रज, रेणु (हे २६; पात्र; आचा)। °कीलिय, °कीलिय वि [°कीडित] जिसके साथ वचन में पांशु-क्रीड़ा की गई हो वह, वचन का दोस्त (महा; सण)। °पिसाय पुं व्री [°पिशाच] जो रेणु-लित होने के कारण पिशाच के तुल्य मालूम पड़ता हो वह (उत् १२)। °मूलिय पुं [°मूलिक] विद्यावर, मनुष्य-विशेष (राज)।

पंसु पुं [पशु] कुठार, करजा (हे १, २६)।

पंसु देखो पसु (पड्)।

पंसुखार पुं [पांशुखार] एक तरह का नोन, ऊपर लवण (दस ३, ८)।

पंसुल पुं [दि] १ कोकिल, कोयल। २ जार, जपति (दि ६, ६६)। ३ वि. उड, रोका हुआ (पड्)।

पंसुल पुं [पांसुल] १ पुंश्ल-परत्री-सम्पत् (गा ५१०; ५६६)। २-वि. धूलि-युक्त (गडड)।

पंसुला व्री [पांसुला] कुलटा, व्यभिचारिणी व्री (कुमा)।

पंसुलिअ वि [पांसुलित] धूलि-युक्त किया हुआ; 'पंसुलिअकरेण' (गडड)।

पंसुलिआ व्री [दि-पांशुलिअ] प्राथ की हठी (पव २५३)।

पंसुली व्री [पांसुली] कुलटा, व्यभिचारिणी व्री (पात्र; सुर १५, २; हे २, १७६)।

पकंथ देखो परंथ (आचा १, ६, २)।

पकंथग पुं [प्रकन्थक] अश्व-विशेष, एक प्रकार का घोड़ा (ठा ४, ३—पत्र २४८)।

पकंप पुं [प्रकम्प] कम्प, कांपना (आव ४)।

पकंपण न [प्रकम्पण] ऊपर देखो (सुपा ६५१)।

पकंपिअ वि [प्रकम्पित] प्रकम्प-युक्त, कांपा हुआ (आव २)।

पकंपिर वि [प्रकम्पितृ] कांपनेवाला (उप ४ १३२)। व्री. °री (रंभा)।

पकड वि [प्रकृत] १ प्रस्तुत, प्रक्रान्त, उप-स्तित, असली, सच्चा (भग ७, १०—पत्र ३२४; १८, ७—पत्र ३५०)। २ कृत, निर्मित (भग १८, ७)।

पकड देखो पगड = प्रकट (भग ७, १०)।

पकड्ड देखो पगडड। कवक. पकडिद्धज-माण (श्रीप)।

पकड्ड वि [प्रकृष्ट] १ प्रकल्प-युक्त। २ खींचा हुआ (श्रीप)।

पकड्डण न [प्रकर्षण] आकर्षण, खींचाव (निचू २०)।

पकट्य सक [प्र + कट्य्] श्लाघा करना, प्रशंसा करना। पकट्यइ (सूत्र १, ४, १, १६; पि ५४३)।

पकप्प अक [प्र + कल्प्] १ काम में आना, उपयोग में आना। २ काटना, छेदना। क. पकप्प (ठा ५, १—पत्र ३००)। देखो पगप्प = प्र + कल्प्।

पकप्प सक [प्र + कल्पय्] १ करना, बनाना। २ संकल्प करना; 'वासं वयं विति पकप्पयानो' (सूत्र २, ६, ५२)।

पकप्प पुं [प्रकल्प] १ उल्लूक आचार, उत्तम आचरण (ठा ४, ३)। २ अस्पवाद, वाचक नियम (उप ६७७ टी; निचू १)। ३ अश्वयन्-विशेष; 'आचारंग' सूत्र का एक अश्वयन्।

४ व्यवस्थापन; 'अट्टावीसविहे आयापकप्पे' (सम २८)। ५ कल्पना। ६ प्रह्वणा। ७ विच्छेद, प्रकृष्ट छेदन (निचू १)। ८ जैन साधुओं का एक प्रकार का आचार। ल्यविर-

कल्प (पंचभा)। ९ एक महाग्रह, ज्योतिष देव-विशेष (सुत्र २०)। °गंथ पुं [°ग्रन्थ] एक प्राचीन जैन ग्रन्थ, 'निशीथ' सूत्र (जीव १)। °जइ पुं [°यति] 'निशीथ' अश्वयन् का जानकार साधु; 'धम्मो जिणपन्नत्तो पकप्पजइणा कह्येव्वो' (धमं १)। °धर वि [°धर] 'निशीथ' अश्वयन् का जानकार (निचू २०)। देखो पगप्प = प्रकल्प।

पकप्पणा व्री [प्रकल्पना] प्रह्वणा, व्याख्या; 'पह्वण ति वा पकप्पण ति वा एगट्ठा' (निचू १)।

पकप्पणा व्री [प्रकल्पना] कल्पना (चिइय १४१; अजक १४२)।

पकप्पधारि वि [प्रकल्पधारिन्] 'निशीथ' सूत्र का जानकार (वव १)।

पकप्पि वि [प्रकल्पिन्] ऊपर देखो (वव १)।

पकप्पिअ वि [प्रकल्पित] काटा हुआ, 'एसा परजुत्तिलया एणण पकंपि (१ कप्पि)। आ रोआ' (अजक १०२)।

पकप्पिअ वि [प्रकल्पित] १ संकल्पित (द्र २)। २ निर्मित (महा)। ३ न. पूर्वोक्त द्रव्य; 'एणो अत्थि पकप्पियं' (सूत्र १, ३, ३, ४)। देखो पगप्पिअ।

पकय वि [प्रकृत] प्रवृत्त, कार्य में लगा हुआ (उप ६२०)।

पकर सक [प्र + कृ] १ करने का प्रारम्भ करना। २ प्रकल्प से करना। ३ करना। पकरेइ, पकरेति, पकरेति (भग; पि ५०६)। वक. पकरेमाण (भग)। संक. पकरित्ता (भग)।

पकर देखो पयर = प्रकर (नाट—वेणी ७२)।

पकरणया व्री [प्रकरणता] करण, कृति (भग)।

पकहिअ वि [प्रकथित] जिसने कहने का प्रारम्भ किया हो वह (उप १०३१ टी; वसु)।

पकाम न [प्रकाम] १ अत्यर्थ, अत्यन्त (राया १, १; महा; नाट—शकु २७)। २ पुं. प्रकृष्ट शमिलाप (भग ७, ७)।

पकाव (अप) सक [पच्] पकाना। पकावउ (पिग; पि ४५४)।

पकास देखो पयास = प्रकाश (पिग) ।  
 पकिट्ट देखो पगिट्ट (राज) ।  
 पकिण्ण वि [प्रकीर्ण] १ उभ, बोया हुआ ।  
 २ दत्त, दिया हुआ; 'जहि पकिण्णा (त्ता) विरहंति. पुण्णा' (उत्त १२, १३) । देखो पइण्ण = प्रकीर्ण ।  
 पकित्तिअ वि [प्रकीर्त्तित] वरिणत्त, कथित (श्रु १०८) ।  
 पकिदि देखो पगइ = प्रकृति (प्राकृ १२) ।  
 पकिदि (शौ) देखो पइइ = प्रकृति (स्वप्न ६०; अग्नि ६५) ।  
 पकिन्न देखो पकिण्ण (उत्त १२, १३) ।  
 पकिरण न [प्रकिरण] देने के लिए फेंकना (वव १) ।  
 पकुण्ण देखो पकर = प्र + कृ । पकुण्णइ (कम्म १, ६०) ।  
 पकुप्प अक [प्र + कुप्] क्रोध करना, गुस्सा करना । पकुप्पति (महानि ४) ।  
 पकुप्पित (चूषे) वि [प्रकुपित] क्रुद्ध, कुपित, गुस्साया हुआ (हे ४, ३२६) ।  
 पकुविअ ऊपर देखो (महानि ४) ।  
 पकुव्व सक [प्र + कृ, प्र + कुर्व] १ करने का प्रारम्भ करना । २ प्रकर्म से करना । ३ करना । पकुव्वइ (पि ५०८) । वक्र. पकुव्वमाण (सुर १६, २४; पि ५०८) ।  
 पकुव्वि वि [प्रकारिन्, प्रकुर्विन्] १ करनेवाला, कर्ता । २ पुं. प्रायश्चित्त देकर शुद्धि कराने में समर्थ गुरु (द्र ४६; ठा ८; पुष्प ३५६) ।  
 पकुविअ वि [प्रकृजित] ऊँचे स्वर से चिल्लाया हुआ (उप पृ. ३३२) ।  
 पकोट्ट देखो पओट्ट (राज) ।  
 पकोव पुं [प्रकोप] गुस्सा, क्रोध (आ १४) ।  
 पक वि [पक] पका हुआ (हे १, ४७; २, ७६; पात्र) ।  
 पक वि [दे] १. तुल, गवित । २ समर्थ, पक्का, पहुँचा हुआ (दे ६, ६४; पात्र) ।  
 पकंत वि [प्रकान्त] प्रस्तुत, प्रकृत (कुमा २७) ।  
 पकग्गाह पुं [दे] १ मकर, मगरमच्छ (दे ६, २३) । २ पानी में बसनेवाला सिंहाकार जल-जन्तु (से ५, ५७) ।

पक्कण वि [दे] १ असहन, असहिष्णु । २ समर्थ, शक्त (दे ६, ६६) । ३ पुं. चाण्डाल (सं ६३) । ४ एक अनार्य देश । ५ पुंल्लो. अनार्य देश-विशेष में रहनेवाली एक मनुष्य-जाति (औप; राज) । लो. °णी (राया १, १; औप; इक) । ६ पुं. एक नीच जाति का घर, शबर-गृह (पारा ५२) । °उल न [कुल] १ चाण्डाल का घर (वृह ३) । २ एक गृहित कुल; 'पक्कणउले वसंतो सउणी इयरोवि गरहिओ होइ' (आत्र ३) ।  
 पक्कणि वि [दे] १ अतिशय शोभमान, खूब शोभता हुआ । २ भग्न, भांगा हुआ । ३ प्रिव्वद, प्रियभाषी (दे ६, ६५) ।  
 पक्कणिय पुंल्लो [दे] एक अनार्य देश में रहनेवाली मनुष्य-जाति (पएह १, १—पत्र १४; इक) ।  
 पक्कन्न न [पक्कन्न] केवल धी में बनी हुई वस्तु, मिठाई आदि (सुपा ३८७) ।  
 पक्कम संक [प्र + क्रम्] प्रकर्म से समर्थ होना । पक्कमइ (भग १५—पत्र ६७८) ।  
 पक्कम सक [प्र + क्रम्] १ प्रकर्म से जाना, चला जाना, गमन करना । २ अक. प्रयत्न होना । प्रवृत्ति होना । पक्कमई (उत्त ३, १३) । पक्कमंति (उत्त २७, १४; दस ३, १३); 'अणुसासणमेव पक्कमे' (सूअ १, २, १, ११) ।  
 पक्कम पुं [प्रक्रम] प्रस्ताव, प्रसंग (सुपा ३७४) ।  
 पक्कमणी लो [प्रक्रमणी] विद्या-विशेष (सूअ २, २, २७) ।  
 पक्कल वि [दे] १ समर्थ, शक्त (हे २, १७४; पात्र; सुर ११, १०४; वज्जा ३४) । १ दर्प-युक्त, गवित (सुर ११, १०४; गा ११८) । ३ प्रौढ; 'चत्तारि पक्कलवइल्ला' (गा ८१२; पि ४३६) ।  
 पकस देखो चकस (आचा) ।  
 पकसावअ पुं [दे] १ शरभ । २ व्याघ्र (दे ६, ७५) ।  
 पकाइय वि [पकीकृत] पकाया हुआ, 'पकाइयमाउलिगसारिच्छा' (वज्जा ६२) ।

पकिर सक [प्र + कृ] फेंकना । वक्र. 'छारं च घूलि च कयवरं च उवरि, पकिर-माणा' (राया १, २) ।  
 पकीलिय वि [प्रकीडित] जिसने क्रीड़ा का प्रारम्भ किया हो वह (राया १, १; कप्प) ।  
 पक्केल्लय वि [पक] पका हुआ (उवा) ।  
 पक्ख पुं [पक्ष] वेदिका का एक भाग (राय ८२) ।  
 पक्ख पुं [पक्ष] १ पाख, पखवारा, आधा महोना, पन्द्रह दिन-रात (ठा २, ४—पत्र ८६; कुमा) । २ शुक्ल और कृष्ण पक्ष, उजला और श्रंवेरा पाख (जीव २; हे २, १०६) । ३ पार्व, पजिर, कन्वा के नीचे का भाग । ४ पक्षियों का अवयव-विशेष, पंख, पर, पतत्र (कुमा) । ५ तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध अनुमान-प्रमाण का एक अवयव, साध्यवाली वस्तु (विसे २८२४) । ६ तरफ, ओर । ७ जत्या, दल, टोली । ८ मित्र, सखा । ९ शरीर का आधा भाग । १० तरफदार । ११ तीर का पंख (हे २, १४७) । १२ तरफदारी (वव १) । °ग वि [°ग] पक्ष-गामी, पक्ष-पर्यन्त स्थायी (कम्म १, १८) ।  
 °पिंड पुंन [°पिण्ड] आसन-विशेष—१ जानु और जाँघ पर वस्त्र बाँध कर बैठना । २ दोनों हाथों से शरीर का बन्धन कर बैठना (उत्त १, १६) । °य पुं [°क] पंखा, ताल-वृत्त (कप्प) । °वंत वि [°वंत्] तरफ-दारीवाला (वव १) । °वाइल्ल वि [°पातिन्] पक्षपात करनेवाला, तरफदारी करनेवाला (उप ७२८ टी; घम्म १ टी) । °वाद् पुं [°पात] तरफदारी (उप ६७०; स्वप्न ४५) । °वादि (शौ) देखो °वाइल्ल (नाट—विक्र २; मालती ६५) । °वाय देखो °वाद् (सुपा २०६; २६३) । °वाय पुं [°वाद्] पक्ष-सम्बन्धी विवाद (उप पृ. ३१२) । °वाह पुं [°वाह] वेदिका का एक देश-विशेष (जं १) । °वडिअ वि [°पतित] पक्ष-पाती (हे ४, ४०१) । °वाइया लो [°वापिका] होम-विशेष (स ७५७) ।  
 पक्खंत न [पक्षान्त] अन्यतरं इन्द्रिय-जात, 'अन्नयरं इदियजायं पक्खंतं भएणइ' (निचू ६) ।

पक्खंतर न [पक्षान्तर] अन्य पक्ष, निम्न पक्ष, दूसरा पक्ष (नाट—महावी २५) ।

पक्खंद सक [प्र + स्कन्द] ? आक्रमण करना । २ दौड़कर गिरना । ३ अव्यवसाय करना; 'पक्खंदे जलियं जोइं धूमकेउं दुरासय' (राज), 'अग्गिण व पक्खंद पयंगतेणा' (उत्त १२, २७) ।

पक्खंदण न [प्रस्कन्दन] ? आक्रमण । २ अव्यवसाय । ३ दौड़कर गिरना (निच्च ११) ।

पक्खंदोलग पुं [पक्ष्यन्दोलक] पक्षी का हिडोला, झूला (राय ७५) ।

पक्खज्जमाण वि [प्रखाद्यमान] जो खाया जाता हो वह (सुत्र १, ५, २) ।

पक्खडिअ वि [दे] प्रस्फुरित, विजृम्भित, समुत्पन्न; 'पक्खडिअ सिहिपडित्तिरे विरहे' (दे ६, २०) ।

पक्खर सक [सं + नाहय्] संनद्ध करना, अश्व को कवच से सज्जित करना । पक्खरहे (सुपा २८८) । संकृ पक्खरिअ (पिंग) ।

पक्खर पुं [प्रक्षर] क्षरण, टपकना (कपूर २६) ।

पक्खर पुं [दे] जहाज की रक्षा का एक उपकरण, सामग्री (सिरि ३८७) ।

पक्खर न [दे] पाखर, अश्व-संनाह, घोड़े का कवच (कुप्र ४४६; पिंग) ।

पक्खरा ली [दे] पाखर, अश्व-संनाह (दे ६, १०); 'श्रोसारिअपक्खरे (विपा १, २) ।

पक्खरिअ वि [संनद्ध] कवचित, संनद्ध, कवच से सज्जित (अश्व) (सुपा ५०२; कुप्र १२०; भवि) ।

पक्खल अक [प्र + खल] गिरना, पड़ना, स्थलित होना । पक्खलद (कस) । वकृ. पक्खलंत, पक्खलमाण (दस ५, १; पि ३०६; नाट—मूच्छ १७; वृह ६) ।

पक्खाउज्ज न [पक्षातोद्य] पक्षाद्य, पक्षावज, एक प्रकार का बाला, मुदंग (कप्प) ।

पक्खाय वि [प्रख्यात] प्रसिद्ध, विभ्रुत (प्राह) ।

पक्खारिण पुं [प्रक्षारिण] ? अनार्य-देश विशेष । २ पुंजी. वस देश का तिवासी मनुष्य । ली. °णी (राय) ।

पक्खाल सक [प्र + क्षालय्] पखारना, शुद्ध करना, धोना । कवकृ. पक्खालिज्जमाण (साया १, ५) । संकृ पक्खालिअ, पक्खालिऊण (नाट—चैत ४०; महा) ।

पक्खालण न [प्रक्षालन] पखारना, धोना (स ५२; औप) ।

पक्खालिअ वि [प्रक्षालित] पखारा हुआ, धोया हुआ (औप; भवि) ।

पक्खासन न [पक्ष्यासन] आसन-विशेष, जिसके नीचे अनेक प्रकार के पक्षियों का चित्र हो ऐसा आसन (जीव ३) ।

पक्खि पुंजी [पक्षिन्] पक्षी, पक्षी (ठां ४, ४; आचा, -सुपा ५६२) । ली. °णी (आ १४) । 'विराल पुंजी [°विराल] पक्षि-विशेष (भग १३, ६) । ली. °ली (जीव १) । 'राय पुं [°राज] गहड़ (सुपा २१०) । नीचे देखो ।

पक्खिअ पुंजी [पक्षिक] ? ऊपर देखो (आ २८) । २ वि. पक्षपाती, तरफदारी करनेवाला; 'तप्पक्खिओ पुराओ अएणो' (आ १२) ।

पक्खिअ वि [पाक्षिक] स्वजन, जाति का (पव २६८) ।

पक्खिअ वि [पाक्षिक] ? पाल में होनेवाला । २ पक्ष से सम्बन्ध रखनेवाला, अर्थ-मास-सम्बन्धी (कप्प; धर्म २) । ३ न. पर्व-विशेष, चतुर्दशी (लहुअ १६; द्र ४५) । °पक्खिअ पुं [°पाक्षिक] नपुंसक-विशेष, जिसको एक पाल में तीन विपयाशिलाप होता हो और एक पक्ष में अल्प, ऐसा नपुंसक (पुष्प १२७) ।

पक्खिकायण न [पाक्षिकायन] गोत्र-विशेष, जो कौशिक गोत्र की एक शाखा है (ठा-७) ।

पक्खिण देवो पक्खिअ; 'जह पक्खिणण गहडो' (पउम १४, १०४) ।

पक्खिणी देवो पक्खिअ ।

पक्खित्त वि [प्रक्षित्त] फेंका हुआ (महा; पि १८२) ।

पक्खिनाह पुं [पक्षिनाय] गहड़ पक्षी (धर्मवि ८४) ।

पक्खिप्प } देखो पक्खिअ ।  
पक्खिप्पमाण }

पक्खिअ सक [प्र + क्षिप्] ? फेंकना, फेंक देना । २ छोड़ना, त्यागना । ३ डालना ।

पक्खिअइ (महा; कप्प) । पक्खिअइ (महा; कप्प) । पक्खिअइ, पक्खिअइजा (आचा २, ३, २, ३) । कवकृ. पक्खिअप्पमाण (साया १, ८—पत्र १२६; १४७) । संकृ. पक्खिअऊण, पक्खिअप्प (महा; सूत्र १, ५-१; पि ३१६) । कृ. पक्खिअवैयव्य (उप ६४८ टी) । प्रयो. वकृ. पक्खिअवावेमाण (साया १, १२) ।

पक्खीण वि [प्रक्षीण] अत्यन्त क्षीण; 'अहं पक्खीणविभवो' (महा) ।

पक्खुडिअ वि [प्रखण्डित] खरिडत, असंपूर्ण (सुपा ११६) ।

पक्खुडभ अक [प्र + डुम्] ? क्षोभ पाना । २ वृद्ध होना, बढ़ना । वकृ. पक्खुडभंत (से २, २४) ।

पक्खुडभंत देखो पक्खोभ ।

पक्खुभिय वि [प्रक्षुभित] क्षोभ प्राप्त, प्रक्षुब्ध (औप) ।

पक्खेव पुं [प्रक्षेप] शास्त्र में पीछे से किसी के द्वारा डाला या मिलाया हुआ वाक्य (धर्मसं १०११) । 'हार पुं [°हार] कवलाहार (सुत्रनि १७१) ।

पक्खेव पुं [प्रक्षेप, °क] ? क्षेपण, पक्खेवग } फेंकना; 'वहिया पोंगलपक्खेवे' (उवा) । २ पूति करनेवाला द्रव्य, पूति के लिए पीछे से डाली जाती वस्तु; 'अपक्खेव-गत्त पक्खेवं दलयइ' (साया १, १५—पत्र १६३) ।

पक्खेवण न [प्रक्षेपण] क्षेपण, प्रक्षेप (औप) ।

पक्खेवय देखो पक्खेवग (वृह १) ।

पक्खोड सक [वि + कोशय्] ? खोलना । २ फैलाना । पक्खोडइ (हे ४, ४२) । संकृ. पक्खोडिऊण (सुपा ३३८) ।

पक्खोड सक [शद्] ? कपाना । २ भाड़ कर गिराना । पक्खोडइ (हे ४, १३०) । संकृ. पक्खोडिय (उप ५८४) ।

पक्खोड सक [प्र + छादय्] ढकना, आच्छादन करना। संकृ. पक्खोडिय (उप ५८४)।

पक्खोड सक [प्र + स्फोटय] १ खुद भाड़ना। २ बारम्बार भाड़ना। पक्खोडिज्जा; वकृ. पक्खोडंत (दस ४, १)। प्रयो. पक्खोडा-विज्जा (दस ४, १)।

पक्खोड पुं [प्रस्फोट] प्रमाणन, प्रतिलेखन की क्रिया-विशेष (पव २)।

पक्खोडण न [शदन्] धूनन, कपाना (कुमा)। पक्खोडिअ वि [शदित] निर्भाटित, भाड़ कर गिराया हुआ (दे ६, २७; पाप्र)।

पक्खोडिय देखो पक्खोड = शद्, प्र + छादय्।

पक्खोभ सक [प्र + क्षोभय्] खुद्व करना, क्षोभ उत्पन्न कर हिला देना। कवकृ. पक्खुवभंत (से २, २४)।

पक्खोलण न [शदन्] १ स्वलित होनेवाला। २ वि. वृ होनेवाला (राज)।

पक्खम (पे) देखो = पक्कमन्; 'पक्खमलणअण' (प्राकृ. १२४)।

पक्खोड देखो पक्खोड = प्रस्फोट (पव २)।

पक्खवि [प्रखर] प्रखर, तीव्र, तेज (प्राप्र)।

पगइ छी [प्रकृति] १ प्रकृति, स्वभाव (भग; कम्म १, २; सुर १४, ६६, सुपा ११०)। २ प्रकृत अर्थ, प्रस्तुत अर्थ; 'पडिसेहदुगं पगइ गमेइ' (वित्से २५०२)। ३ प्राकृत लोक, साधारण जन-समूह; 'दिन्नमुदारे बहुदव्वं पगइयं' (सुपा ५६७)। ४ कुम्भकार आदि अठारह मनुष्य-जातियों; अट्टारसपगइभंतराण को सो न जो एइ' (आक १२)। ५ कर्मों का भेद (सम ६)। ६ सत्व, रज और तम की साम्या-वस्था। ७ बलदेव के एक पुत्र का नाम (राज)। ८ वंश पुं [वन्ध] कर्म-पुद्गलों में भिन्न-शक्तियों का पैदा होना (कम्म १, २)। देखो पगडि।

पगंठ पुं [प्रकण्ठ] १ पीठ-विशेष। २ अन्त का अवनत प्रदेश (जीव ३)।

पगंथ सक [प्र + कथय्] निन्दा करना; 'अलियं पगं(कं)ये अरुवा पगं(कं)ये' (आचा)।

पगड वि [प्रकट] व्यक्त, खुला, स्पष्ट, पृथक्, (पि २१६)।

पगड वि [प्रकृत] प्रविहित, विनिर्मित (उत्त १३)।

पगड पुं [प्रगत्त] बढ़ा गइया या गइहा (आचा २, १०, २)।

पगडण न [प्रकटन] प्रकाश करना, खुला करना (एदि)।

पगडि छी [प्रकृति] १ भेद; प्रकार (भग)। २—देखो पगइ (सम ५६; सुर १४, ६८)।

पगडीकय वि [प्रकटीकृत] व्यक्त किया हुआ, स्पष्ट किया हुआ (सुपा १८१)।

पगड्ढ सक [प्र + कृप्] खींचना। कवकृ. पगड्ढिज्जमाण (विपा १, १)।

पगप्प देलो पक्कप्प = प्र + कल्पय्। संकृ. पगप्पएत्ता (सूत्र २, ६, ३७)।

पगप्प देखो पक्कप्प = प्र + वल्प् (सूत्र १, ८, ५)।

पगप्प वि. [प्रकल्प] १ उत्पन्न होनेवाला, प्रादुर्भूत होनेवाला; 'बहुगुणप्पगप्पाइं कुज्जा अत्तसमाहिण' (सूत्र १, ३, ३, १६)। देखो पक्कप्प = प्रकल्प (आचा)।

पगप्पिअ वि [प्रकल्पित] प्रकल्पित; कथित; 'ए उ एयाहिं दिट्ठीहिं पुव्वमासि पगप्पियं' (सूत्र १, ३, ३, १६)। देखो पक्कप्पिअ।

पगप्पिअ वि [प्रकल्पयित्, प्रकर्तयित्] काटनेवाला, कतरनेवाला; 'हंता छेत्ता पगप्पि- (?प्पि)त्ता आयासायाणुगामिणो' (सूत्र १, ८, ५)।

पगवभ अक [प्र + गल्भ] १ घृष्टता करना, घृष्ट होना। २ समर्थ होना। पगवभइ, पगवभई (आचा; सूत्र १, २, २, २१; १, २, ३, १०; उत्त ५, ७)।

पगवभ वि [प्रगल्भ] घृष्ट, ढोठ (पउम ३३, ६६)। २ समर्थ (उप २६४ टी)।

पगवभ न [प्रागल्भ्य] घृष्टता, ढोठाई; 'पगप्पि पाणे बहुणंतिवातो' (सूत्र १, ७, ८)।

पगवभणा छी [प्रगल्भना] प्रगल्भता, घृष्टता (सूत्र १, १०, १७)।

पगवभा छी [प्रगल्भा] भगवान् पारवनाय की एक शिष्या (आवम)।

पगवभिअ वि [प्रगल्भिअ] घृष्टता-युक्त (सूत्र १, १, १, १३; १, २, ३, ४)।

पगवभिअ वि [प्रगल्भिअ] काटनेवाला; 'हंता छेत्ता पगप्पिअ' (सूत्र १, ८, ५)।

पगय न [प्रकृत] १ प्रस्ताव, प्रसंग (सूत्रनि ४७)। २ पुं. गांव का अधिकारी (पव २६८)।

पगय वि [प्रगत] संगत (आवक १८६)।

पगय वि [प्रकृत] प्रस्तुत, अधिकृत (वित्से ८३३; उप ४७६)।

पगय वि [प्रगत] १ प्राप्त (राज)। २ जिसने गमन करने का प्रारम्भ किया हो वह; 'मुण्णि-णोवि जहाभिमयं पगया पगएण कज्जेण' (सुपा २३५)। ३ न. प्रस्ताव, अधिकार (सूत्र १, ११; १५)।

पगय न [दे] पन, पांव, पैर; 'एत्थंतरम्मि लग्गो चंडमारुओ। तेण भग्गो तुरयपगयमग्गो' (महा)।

पगर पुं [प्रकर] समूह, राशि (सुपा ६५५)।

पगरण न [प्रकरण] १ अधिकार, प्रस्ताव। २ ग्रंथ-खण्ड-विशेष, ग्रंथांश-विशेष (वित्से १११५)। ३ किसी एक विषय को लेकर बनाया हुआ छोटा ग्रन्थ (उव)।

पगरिअ वि [प्रगलित] गलित्कुष्ठ, कुष्ठ-विशेष की बीमारीवाला (पिंड ५७२)।

पगरिस पुं [प्रकर्ष] १ उत्कर्ष, श्रेष्ठता (सुपा १०६)। २ आधिक्य, अतिशय (सुर ४, १६६)।

पगरिसण न [प्रकर्षण] ऊपर देखो (यति १६)।

पगल अक [प्र + गल्] भरना, टपकना। वकृ. पगलंत (विपा १, ७; महा)।

पगहिय वि [प्रगृहीत] ग्रहण किया हुआ, उपात्त (सुर ३, १६७)।

पगाइय वि [प्रगीत] जिसने गाने का प्रारंभ किया हो वह; 'पगाइयाइं मंगलमंतेउराइं' (स ७३६)।

पगाढ वि [प्रगाढ] अत्यन्त गाढ़ (विपा १, १; सुपा ५३०)।

पगाम देखो पक्काम (आचा; आ १४; सुर ३, ८७; कुप्र ३१५)।

पगामसो अ [ प्रकाशम् ] अत्यन्त, अतिशयः  
'पगामसो भुञ्जा' (उत्त १७, ३) ।

पगार पुं [ प्रकार ] ? भेद (आचू ?) । २  
रिति: 'एएण पगारेण सव्वं, दव्वं दवाविओ'  
(महा) । ३ आदि, वगैरह, प्रभृति (सूत्र १,  
१३) ।

पगास देखो पयास = प्र + काशय् । वक्र.  
पगासेत (महा) ।

पगास पुं [ प्रकाश ] ? प्रभा, दीप्ति, चमक  
(खाया १, १); 'एणं महं नीलुप्पलगवल्लुलि-  
यग्रयसिक्कुमुमप्पगासं अस्सि सुरवारं गहाय'  
(उत्ता) । २ प्रसिद्धि, ख्याति (सूत्र १, ६) ।  
३ आविभावं, प्रादुर्भावं । ४ उद्द्योत, आतप  
(राज) । ५ क्रोध, गुस्ता; 'छल्लं च पसंस  
णो करे न य उक्कोस पगास माहणे' (सूत्र  
१, २, २६) । ६ वि. प्रकट, व्यक्त (निचू  
?) ।

पगासग देखो पगासय (राज) ।

पगासण देखो पयासण (श्रीप) ।

पगासणया वीं [ प्रकाशानता ] प्रकाश,  
शालोक (श्लोक ५५०) ।

पगासणा वी [ प्रकाशना ] प्रकटीकरण  
(उत्त ३२, २) ।

पगासय वि [ प्रकाशक ] प्रकाश करनेवाला  
(विसे ११५५) ।

पगासिय वि [ प्रकाशित ] उद्द्योतित, दीप्त;  
'से सूरियस्स अन्धुग्गमेणं मग्गं वियाणाइ  
पगासियंति' (सूत्र १, १४, १२) ।

पगिइ देखो पगइ (संवाच ३६) ।

पगिउम्भ अक [ प्र + गृध् ] आसक्ति का  
प्रारम्भ होना । पगिउम्भजा (उत्त ८, १६;  
सुख ८, १६) ।

पगिउम्भय देखो पगिण्ह (कस; श्रीप; पि  
५६१) ।

पगिट्ट वि [ प्रकृष्ट ] ? प्रधान, मुख्य (नुपा  
७७) । २ उत्तम, श्रेष्ठ (कुप्र २०; सुपा  
२२६) ।

पगिण्ह सक [ प्र + ग्रह् ] ? ग्रहण करना ।  
२ उठाना । ३ धारण करना । ४ करना ।  
चंद्र. पगिण्हत्ता, पगिण्हत्ताणं, पगि-  
उम्भय (पि ५८२; ५८३; श्रीप; आचा २,  
३, ४, १; कस) ।

पगीअ वि [ प्रगीत ] ? गाया हुआ (पउम  
३७, ४८) । २ जिसकी गीत गाई गई हो  
वह (उप २११ टी) ।

पगीय वि [ प्रगीत ] जिसने गाने का प्रारम्भ  
किया हो वह (राय. ४६) ।

पगुण देखो पउण (सूत्र १, १, २) ।

पगुणीकर सक [ प्रगुणी + कृ ] प्रगुण करना,  
तय्यार करना, सज्ज करना । कवक. पगु-  
णीकीरंत (सुर १३, ३१) ।

पगे अ [ प्रगे ] सुबह, प्रभात काल (सुर ७,  
७८; कुप्र १५५) ।

पगग सक [ ग्रह् ] ग्रहण करना । पगगइ  
(पइ) ।

पगगल वि [ द्वे ] पगल, उन्नत (प्राक.  
१०६) ।

पगगह पुं [ प्रग्रह ] खाने के लिए उठाना  
हुआ भोजन-गान (सूत्र २, २, ७३) ।

पगगह पुं [ प्रग्रह ] ? उपवि; उपकरण  
(श्लोक ६६६) । २ लगाम (से ६, २७; १२,  
६६) । ३ पशुओं को नाक में लगाई जाती  
डोरी, नाक की रस्ती, नाथ । ४ पशुओं को  
वांघने की डोरी, रस्ती, पगहा (खाया १ ३;  
उत्ता) । ५ नायक, मुखिया (ठा १) । ६ ग्रहण,  
उपादान । ७ योजन, जोड़ना; 'अंजलिपग्ग-  
हणं' (भग) ।

पगगहिअ वि [ प्रगृहीत ] ? अन्वुपगत,  
सन्त्यक् स्वीकृत (अनु. ३) । २ प्रकपं से गृहीत  
(भग; श्रीप) । ३ उठाना हुआ (वमं ३;  
ठा ६) ।

पगगहिय वि [ प्रग्रहिक ] ऊपर देखो (उत्ता) ।

पगिगम ? (अप) अ [ प्रायस् ] प्रायः  
पगिगम्य } बहुधा (पइ; हे ४, ४१४,  
कुमा) ।

पगगज्ज पुं [ द्वे ] निकर, समूह (दे ६, १५) ।

पघंस सक [ प्र + घृप् ] फिर-फिर घिसना ।  
पघंसेज्ज (निचू १७) । प्रयो. वक्र पघंसावंत  
(निचू १७) ।

पघंसण न [ प्रघर्षण ] पुनः पुनः घर्षण,  
'एक्कं दिणं आघंसणं, दिणे दिणे पघंसणं'  
(निचू ३) ।

पघोल अक [ प्र + घूर्णय् ] मिलना, संगत  
होना । वक्र. 'कंठपघोलंतपंचमुंगारो' (कुप्र  
२२६) ।

पघोस पुं [ प्रघोष ] उच्चैः शब्द-प्रकाश,  
उद्घोषणा (भवि) ।

पघोसिय वि [ प्रघोषित ] घोषित किया  
हुआ, उच्च स्वर से प्रकाशित किया हुआ  
(भवि) ।

पच सक [ पच् ] पकाना । पचइ, पचए,  
पचंति; पचसि, पचसे, पचह, पचत्य; पचामि,  
पचामो, पचामु, पचाम, पचिमो, पचिमु  
(संज्ञि ३०; पि ४३६, ४५५) । कवक.  
पचमाण; 'नए नेरइयाणं अहोनिस्स पच-  
माणाणं' (सुर १४, ४६; सुपा ३२८) ।

पच (अप) देखो पंच । °आलीस, °तालीस  
खीन [ °चत्वारिंशत् ] ? संख्या-विशेष,  
पैतालीस, ४५ । २ पैतालीस संख्या जिनकी  
हो वे (पि २७३; ४४५; पिंग) ।

पचंक्रमण न [ प्रचङ्क्रमण, °क ] पांव से  
चलना (श्रीप) ।

पचंक्रमावण न [ प्रचङ्क्रमण ] पांव से  
संचारण, पांव से चलाना (श्रीप १०५ टि) ।

पचंड देखो पयंड (वव =) ।

पचलिय देखो पयलिय = पचलित (श्रीप) ।

पचार सक [ प्र + चारय् ] चलाना । पचा-  
रेइ (सिदि ४३५) ।

पचार पुं [ प्रचार ] विस्तार, फैलाव (मोह  
२०) । देखो पयार = प्रचार ।

पचाल सक [ प्र + चालय् ] अतिशय  
चलाना, खूब चलाना । वक्र. पचालेमाण  
(भग १७, १) ।

पचिय वि [ प्रचित ] समृद्ध (त्वण ६६) ।

पचोस (अप) खीन [ पञ्चविंशति ] ? पचोस,  
संख्या-विशेष, बीस और पांच, २५ । २  
जिनकी संख्या पचोस हो वे (पिंग; पि २७३) ।

पचुन्निय वि [ प्रचूर्णित ] चूर-चूर किया  
हुआ (सुर २, ८७) ।

पचेलिम वि [ पचेलिम ] पक्व, पका हुआ;  
'सइमहुरपचेलिमफलेहि' (सुपा ८३) ।

पचोइअ वि [ प्रचोदित ] प्रेरित (सूत्र १,  
२; ३) ।

पचइग देखो पचइय = प्रत्ययिक (सुख २,  
१७) ।

पञ्चइय वि [प्रत्ययिक] १ विश्वासी, विद्वांस-  
वाला (शाया १, १२) । २ ज्ञानवाला,  
प्रत्ययवाला । ३ न, श्रुत-ज्ञान, आगम-ज्ञान  
(विसे २१३६) ।

पञ्चइय वि [प्रत्ययित] विश्वांसवाला, विद्व-  
स्त (महाः सुर १६, १६६) ।

पञ्चइय वि [प्रात्ययिक] प्रत्यय से उत्पन्न,  
प्रतीति से संजात (ठा ३, ३—पत्र १५१) ।

पञ्चंग न [प्रत्यङ्ग] हर एक अवयव (गुण  
१५; कप्प) ।

पञ्चंगिरा लो [प्रत्याङ्गिरा] विद्यादेवी-विशेष,  
'ईसिवियसंतवयणा पन्नइ पञ्चंगिरा अहं  
विजा' (सुपा ३०६) ।

पञ्चंत पु [प्रत्यन्त] १ अनार्यदेश (प्रयो  
१६) । २ वि. समीपस्थ देश, संनिष्ठप्रान्त  
भाग (सुर २, २००) ।

पञ्चंतिग देखो पञ्चंतिय = प्रत्यन्तिक (आचा  
२, ३, १, ५) ।

पञ्चंतिय वि [प्रत्यन्तिक] समीप-देश में  
स्थित (उप २११ टी) ।

पञ्चंतिय वि [प्रात्यन्तिक] प्रत्यन्त देश से  
आया हुआ (वम्म ६ टी) ।

पञ्चकल न [प्रत्यक्ष] १ इन्द्रिय आदि को  
सहायता के बिना ही उत्पन्न होनेवाला ज्ञान  
(विसे २६) । २ इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाला  
ज्ञान (ठा ४, ३) । ३ वि. प्रत्यक्ष ज्ञान का  
विषय; 'पञ्चकलाओ अणुणो एणो तरुणो  
महाभागो' (सुर ३, १७१) ।

पञ्चकल } सक [प्रत्या + कला] त्याग  
पञ्चकला } करना, त्याग करने का नियम  
करना । पञ्चकलाइ (भग) । वक्र. पञ्चकल-  
माण, पञ्चकलाएमाण (पि ५६१; उवा) ।  
संक्र. पञ्चकलाइत्ता (पि ५२२) । क.  
पञ्चकलेय (आव ६) ।

पञ्चकलाण न [प्रत्याख्यान] १ परियाग  
करने की प्रतिज्ञा (भग; उवा) । २ जैन  
ग्रन्थांश-विशेष, नववाँ पूर्व-ग्रन्थ (सम २६) । ३  
सर्व सावद्य—निद्य कर्मों से निवृत्ति (कम्म १,  
१७) । ४ वरण पुं [वरण] कषाय-विशेष,  
सावद्य-विरति का प्रतिबन्धक क्रोध-आदि  
(कम्म १, १७) ।

पञ्चकलाणि वि [प्रत्याख्यानिन्] त्याग की  
प्रतिज्ञा करनेवाला (भग ६, ४) ।

पञ्चकलाणी लो [प्रत्याख्यानी] भाषा-विशेष,  
प्रतिषेधवचन (भग १०, ३) ।

पञ्चकलाय वि [प्रत्याख्यात] त्यक्त, छोड़  
दिया हुआ (शाया १, १; भग; कप्प) ।

पञ्चकलायय वि [प्रत्याख्यायक] त्याग  
करनेवाला, 'भत्तपञ्चकलायए' (भग १४, ७) ।

पञ्चकलाव सक [प्रत्या + कलापय]  
त्याग कराना, किसी विषय का त्याग करने  
की प्रतिज्ञा कराना । वक्र. पञ्चकलावित  
(आव ६) ।

पञ्चकिल वि [प्रत्यक्षिन्] प्रत्यक्ष ज्ञानवाला  
(वव १) ।

पञ्चकिलय देखो पञ्चकलाय (सुपा ६२४) ।

पञ्चकलीकर सक [प्रत्यक्षी + कृ] प्रत्यक्ष  
करना, साक्षात् करना । भवि. पञ्चकलीक-  
रिस्सं (अभि १२२) ।

पञ्चकलीकिइ (सौ) वि [प्रत्यक्षीकृत] प्रत्यक्ष  
किया हुआ, साक्षात् जाना हुआ (पि ४६) ।

पञ्चकलीभू अक [प्रत्यक्षी + भू] प्रत्यक्ष  
होना, साक्षात् होना । संक्र. पञ्चकलीभूय  
(आवम) ।

पञ्चकलेय देखो पञ्चकला ।

पञ्चग्ग वि [प्रत्यग्र] १ प्रवान, मुख्य (स  
२४) । २ अष्ट, सुन्दर (उप ६२६ टी; सुर  
१०, १५२) । ३ नवीन, नया (पाअ) ।

पञ्चच्छिम देखो पञ्चत्थिम (राज; ठा २,  
३—पत्र ७६) ।

पञ्चच्छिमा देखो पञ्चत्थिमा (राज) ।

पञ्चच्छिमिल्लि वि [पाश्चात्य] पश्चिम दिशा  
में उत्पन्न, पश्चिम दिशा-सम्बन्धी (सम ६६;  
पि ३६५) ।

पञ्चच्छिमुत्तरा देखो पञ्चत्थिमुत्तरा (राज) ।

पञ्चड अक [क्षर] भरना, टपकना । पञ्चडइ  
(हे ४, १७३) । वक्र. पञ्चडमाण (कुमा) ।

पञ्चडु सक [गम्] जाना, गमन करना ।  
पञ्चडुइ (हे ४, १६२) ।

पञ्चडुअ वि [क्षरित] भरा हुआ, टपका  
हुआ (हे २, १७४) ।

पञ्चडुया लो [दे. प्रत्यङ्गिका] मल्लों का एक  
प्रकार का करण (विसे ३३५७) ।

पञ्चणीय वि [प्रत्यनीक] विरोधी, प्रतिपक्षी,  
दुश्मन (उप १४६ टी; सुपा ३०७) ।

पञ्चणुभव सक [प्रत्यनु + भू] अनुभव  
करना । वक्र. पञ्चणुभवमाण (शाया १,  
२) ।

पञ्चणुहो देखो पञ्चणुभव । पञ्चणुहोइ (उत्त  
१३, २३) ।

पञ्चत्त वि [प्रत्यक्त] जिसका त्याग करने का  
प्रारम्भ किया गया हो वह (उप २२२) ।

पञ्चत्तर न [दे] चाट्ट, खुशामद (दे ६, २६) ।

पञ्चत्थरण न [प्रत्यास्तरण] विद्यौना (पि  
२२५) । देखो पत्तत्थरण ।

पञ्चत्थि वि [प्रत्यथिन्] प्रतिपक्षी, विरोधी,  
दुश्मन (उप १०३१ टी; पाअ; कुप्र १४१) ।

पञ्चत्थिम वि [पाश्चात्य, पश्चिम] १ पश्चिम  
दिशा तरफ का, पश्चिम का । २ न, पश्चिम  
दिशा; 'पुरत्थिमेणं लवणसमुद्दे जोयणसाह-  
स्सियं वेत्तं जाणइ, पासइ; एवं दक्खिणेणं,  
पञ्चत्थिमेणं' (उवा; भग; आचा; ठा २, ३) ।

पञ्चत्थिमा लो [पश्चिमा] पश्चिम दिशा  
(ठा १०—पत्र ४७२; आचा) ।

पञ्चत्थिमिल्लि वि [पाश्चात्य] पश्चिम दिशा  
का (विषा १, ७; पि ५६५; ६०२) ।

पञ्चत्थिमुत्तरा लो [पश्चिमोत्तरा] पश्चिमोत्तर  
दिशा, वायव्य कोण (ठा १०—पत्र ४७२) ।

पञ्चत्थुय वि [प्रत्यास्तृत] आच्छादित, ढका  
हुआ (पसम ६४; ६६; जीव ३) । २  
विद्याया हुआ (उप ६४२ टी) ।

पञ्चद्ध न [पञ्चार्ध] पिछला आधा, उत्तरार्ध  
(गउड) ।

पञ्चद्धचक्रवट्टि पुं [प्रत्यर्धचक्रवर्तिन्] वासु-  
देव का प्रतिपक्षी राजा, प्रतिवासुदेव (ती  
३) ।

पञ्चप्पण न [प्रत्यर्पण] वापस देना, लौटा  
देना (विसे ३०५७) ।

पञ्चप्पिण सक [प्रति + अर्पय] १  
वापस देना, लौटाना । २ सौंप हुए कार्य को  
करके निवेदन करना । पञ्चप्पिणइ (कप्प) ।  
कर्म. पञ्चप्पिणइइ (पि ५५७) । वक्र.  
पञ्चप्पिणमाण (ठा ५, २—पत्र ३११) ।  
संक्र. पञ्चप्पिणित्ता (पि ५५७) ।

पञ्चवलोक्त वि [दे] आसक्त-वित्त, तल्लोन-  
मनस्क (दे ६, ३४) ।

पञ्चवभास पुं [प्रत्याभास] निगमन,  
प्रद्युच्चारण (वित्ते २६३२) ।

पञ्चभिआण देखो पञ्चभिजाण । पञ्चभि-  
आणादि (शौ) (पि १७०; ५१०) ।

पञ्चभिआणिद् (शौ) देखो पञ्चभिजाणिअ  
(पि ५३५) ।

पञ्चभिजाण सक [प्रत्यभि + ज्ञा] पहि-  
चानना, पहिचान लेना । पञ्चभिजाणइ  
(महा) । वक्र पञ्चभिजाणमाण (णाया  
१, १६) । संक्र. पञ्चभिजाणिऊण  
(महा) ।

पञ्चभिजाणिअ वि [प्रत्यभिज्ञात] पहि-  
चाना हुआ (स ३६०) ।

पञ्चभिजाण न [प्रत्यभिज्ञान] पहिचान  
(स २१२; नाट—शकु ५४) ।

पञ्चभिजाय देखो पञ्चभिजाणिअ (स  
१००; मुर ६, ७६; महा) ।

पञ्चमाण देखो पञ्च = पच् ।

पञ्चय पुं [प्रत्यय] १ प्रतीति, ज्ञान, बोध  
(उव; ठा १; वित्ते २१४०) । २ निर्णय,  
निश्चय (वित्ते २१३२) । ३ हेतु, कारण (ठा  
२, ४) । ४ शपथ, विरवास उत्पन्न करने के  
लिए किया या कराया जाता तप्त-माप आदि  
का चर्चण बगैरह (वित्ते २१३१) । ५ ज्ञान  
का कारण । ६ ज्ञान का विषय, ज्ञेय पदार्थ  
(राज) । ७ प्रत्यय-जनक, प्रतीति का  
उत्पाक (वित्ते २१३१; भावम) । ८ विधास,  
श्रद्धा । ९ शब्द, आवाज । १० छिद्र, विवर ।  
११ आवार, आश्रय । १२ व्याकरण-प्रसिद्ध  
प्रकृति में लगता शब्द-विशेष (हे २, १३) ।

पञ्चल वि [दे] १ पक्का, समय, पहुँचा  
हुआ (दे ६, ६६; सुपा ३४; मुर १, १४;  
कुप्र ६६; पाय) । २ असहन, असहिष्णु  
(दे ६, ६६) ।

पञ्चलिउ (अप) अ [प्रत्युत्] वैपरोत्य,  
पञ्चलिउ } वरुच, वज् (हे ४, ४२०) ।

पञ्चवणद (शौ) वि [प्रत्यवणत] नमा हुआ,  
'एस मं कोवि पञ्चवणदसिरोहर् उच्छुं विग्र  
तिरण (?) भंग करेदि' (अभि २२४) ।

पञ्चवखय वि [प्रत्यवखत] १ विद्याया  
हुआ । २ आच्छादित (भावम) ।

पञ्चवस्थाण न [प्रत्यवस्थान] १ शब्दा-  
परिहार, समाधान (वित्ते १००७) । १  
प्रतिवचन, खण्डन (शुह १) ।

पञ्चवर न [दे] मुसल, एक प्रकार की मोटी  
लकड़ी जिससे चावल आदि अन्न कूटे जाते  
हैं (दे ६, १५) ।

पञ्चवाय पुं [प्रत्यवाय] १ वाषा, विष्णु,  
व्याघ्रत (णाया १, ६; महा; स २०६) ।  
२ दोष, दूषण (पत्रम ६५, १२; अचु ७०;  
श्रीप २४) । ३ वाप; 'बहुपञ्चवायमरियो  
गिहवातो' (सुपा १६२) । ४ दुःख, पीड़ा  
(कुप्र ५५२) ।

पञ्चवाय पुं [प्रत्यवाय] १ उपात-हेतु,  
नाश का कारण (उत्त १०, ३) । २ अर्थ  
(पंचा ७, ३६) ।

पञ्चवेखिखद् (शौ) वि [प्रत्यवेखित] }  
निरीक्षित (नाट—शकु १३०) ।

पञ्चह न [प्रत्यह] हररोज, प्रतिदिन (अभि  
६०) ।

पञ्चहिजाण } देखो पञ्चभिजाण । पञ्च-  
पञ्चहिजाण } हिजाणोदि (पि ५१०) । पञ्च-  
हियाणइ (स ४२) । संक्र. पञ्चहियाणिऊण  
(स ४४०) ।

पञ्चा लो [दे] तुण-विशेष, बल्वज (ठा ५, ३) ।  
पिञ्चियय न [दे] बल्वज तुण को कूटो  
हुई ब्याल का बना हुआ रजोहरण—जैन  
साधु का एक उपकरण (ठा ५, ३—पत्र  
३३८) ।

पञ्चा देखो पञ्चझा (प्रयो ३६; नाट—रत्ना ७) ।

पञ्चाअच्छ सक [प्रत्या + गम्] पीछे  
लौटना, वापस आना । पञ्चाअच्छइ (पड्) ।

पञ्चाअद् (शौ) देखो पञ्चागय (प्रयो २५) ।

पञ्चाइक्ख देखो पञ्चेक्ख = प्रत्या + ह्या ।

पञ्चाइक्खामि (आचा २, १५; ५, १) ।  
भवि. पञ्चाइक्खिस्सामि (पि ५२६) । वक्र.  
पञ्चाइक्खमाण (पि ४६२) ।

पञ्चाउट्टणया लो [प्रत्यावर्त्तनता] श्रवाय—  
संशय रहित निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष, निश्च-  
यात्मक मति-ज्ञान (सुंदि १७६) ।

पञ्चाएस पुंन [प्रत्यादेश] इष्टान्त, निदर्शन,  
उदाहरण; 'पञ्चाएसोच्च धम्मनिरवाणं' (स

३५; उव; कुप्र ५०); 'पञ्चाएसं दिट्ठं'  
(पाप) । देखो पञ्चादेश ।

पञ्चागय वि [प्रत्यागत] १ वापस आया  
हुआ (गा ६३३; दे १, ३१; महा) । २ न.  
प्रत्यागमन (ठा ६—पत्र ३६५) ।

पञ्चाचक्ख नक [प्रत्या + चक्ष्] परिवान  
करना । हेइ. पञ्चाचक्खिखुं (शौ) (पि  
४६६; ५७४) ।

पञ्चागयण न [प्रत्यागयण] वापस ले आना  
(मुद्रा २७०) ।

पञ्चाणि } सक [प्रत्या + णी] वापस ले  
पञ्चाणी } आना । क्वक. पञ्चाणिज्जंत (सि  
११, १३५) ।

पञ्चाणोद् (शौ) वि [प्रत्यानीत] वापस  
लाया हुआ (पि ८१; नाट—विक्र १०) ।

पञ्चाथरण न [प्रत्यात्तरण] सामने होकर  
लड़ना (राज) ।

पञ्चादिट्ठु वि [प्रत्यादिट्ठ] निरस्त, निराकृत  
(पि १४५; मृच्छ ६) ।

पञ्चादेश पुं [प्रत्यादेश] निराकरण (अभि  
७२; १७८; नाट—विक्र ३) । देखो पञ्चाएस ।

पञ्चापड अक [प्रत्या + पत्] वापस  
आना, लौटकर आ पड़ना । वक्र. 'अग्गपडि-  
हयपुणरविपचापइतत्तच्चनिरिक्खययं' (श्रीप) ।

पञ्चानित्त पुंन [प्रत्यमित्र] अमित्र, दुश्मन  
(णाया १, २—पत्र ८७; श्रीप) ।

पञ्चाय सक [त्ति + आयच्] १ प्रतीति  
कराना । २ विधास कराना । पञ्चाअइ (गा  
७१२) । पञ्चाणो (स ३२४) ।

पञ्चायं देखो पञ्चाया ।

पञ्चायण न [प्रत्यायण] ज्ञान कराना, प्रतीति-  
जनन (वित्ते २१३६) ।

पञ्चायय वि [प्रत्यायक] १ निर्णय-जनक ।  
२ विधास-जनक (विक्र ११३) ।

पञ्चाया अक [प्रत्या + जन्] उत्पन्न होना,  
जन्म लेना । पञ्चायति (श्रीप) । भवि.  
पञ्चायाहिइ (श्रीप; पि ५२७) ।

पञ्चाया अक [प्रत्या + या] ऊपर देखो ।  
पञ्चायति (पि ५२७) ।

पञ्चायाइ लो [प्रत्याजाति, प्रत्यायाति]  
उत्पत्ति, जन्म-ग्रहण (ठा ३, ३—पत्र १४४) ।

पञ्चायाय वि [प्रत्यायात] उत्पन्न (भंग) ।

पञ्चारः सक [ उपा + लम्भ ] उपालम्भ देना, उलाहना देना । पञ्चारद, पञ्चारति (हे ४, १५६; कुमा) ।

पञ्चारण न [ उपालम्भन ] प्रतिभेद (पात्र) ।

पञ्चारिअ वि [ प्रचारित ] जलापा हुआ (सिंरि ४३६) ।

पञ्चारिय वि [ उपालब्ध ] जिसको उलाहना दिया गया हो वह (भवि) ।

पञ्चालिय वि [ दे. प्रत्यादित ] श्राद्र किया हुआ, गोला किया हुआ; 'पञ्चालिया य से ग्रहियमरं वाहसलिलेण दिट्ठी' (स ३००) ।

पञ्चालिड न [ प्रत्यालिड ] वाम पाद को पीछे हटा कर और दक्षिण पाँव को आगे रखकर खड़े रहनेवाले वानुष्क की स्थिति घनुपचारियों का पैतरा (वव १) ।

पञ्चावड पुं [ प्रत्यावर्त्त ] आवर्त्त के सामने का आवर्त्त, पानी का नैवर (राय ३०) ।

पञ्चावरणह पुं [ प्रत्यापराह ] मध्याह्न के बाद समय, तीसरा पहर (विपा १, ३ टि; वि ३३०) ।

पञ्चासण वि [ प्रत्यासन्न ] समीप में स्थित, सन्निकट, बहुत पास (विसे २६३१) ।

पञ्चासत्ति वी [ प्रत्यासत्ति ] समीपता, सामीप्य (मुद्रा १६१) ।

पञ्चासन्न देवो पञ्चासण्णः 'निच्चं पञ्चासन्नो परिसक्कइ सव्वओ मच्चू' (उप ६ टी) ।

पञ्चासा वी [ प्रत्याशा ] १ आकांक्षा, वाञ्छा, अभिलाषा । २ निराशा के बाद की आशा (स ३६८) । ३ लोभ, लालच (उप पृ ७६) ।

पञ्चासि वि [ प्रत्याशिन ] वास्तु या क्य किया हुआ वस्तु का भक्षण करनेवाला (आचा) ।

पञ्चाह सक [ प्रति + त्रू ] उत्तर देना । पञ्चाह (पिड ३७८) ।

पञ्चाहर सक [ प्रत्या + ह ] उपदेश देना । वक्र. 'पञ्चाहरओ वि णं हिययगमणीओ जोयणनीहारी सरो' (सम ६०) ।

पञ्चाहुत्त क्वि वि [ पञ्चान्मुख ] पीछे, पीछे की तरफ; 'जाव न सत्तडु पए पञ्चाहुत्तं नियत्तो सि' (वमंवि ५४) ।

पञ्चिम देवो पञ्चिम्म (पिपा; पि ३०१) । पञ्चुअ (दे) देवो पञ्चुहिअ (दे ६, २५) ।

पञ्चुअआर देवो पञ्चुवयार (चाह ३६; नाट—मुच्छ ५७) ।

पञ्चुग्गच्छणया वी [ प्रत्युद्गमनता ] अभिमुख गमन, (भग १४, ३) ।

पञ्चुचार पुं [ प्रत्युचार ] अनुवाद, अनुभाषण (स १८४) ।

पञ्चुच्छुहणी वी [ दे ] तूतन सुरा, ताजा दाह (दे २, ३५) ।

पञ्चुज्जीविअ वि [ प्रत्युज्जीवित ] पुनर्जीवित (गा ६३१; कुप्र ३१) ।

पञ्चुट्ठिअ वि [ प्रत्युत्थित ] जो सामने खड़ा हुआ हो वह (सुर १, १३४) ।

पञ्चुण्णम अक [ प्रत्युद् + नम् ] थोड़ा ऊँचा होना । पञ्चुण्णमइ (कप्प) । संक. पञ्चुण्णमिता (कप्प; औप) ।

पञ्चुत्त वि [ प्रत्युत्त ] फिर से बोया हुआ (दे ७, ७७; गा ६१८) ।

पञ्चुत्तर सक [ प्रत्यव + तृ ] नीचे आना । पञ्चुतरइ (पि ४४७) । संक. पञ्चुत्तरित्ता (राज) ।

पञ्चुत्तर न [ प्रत्युत्तर ] जवाब, उत्तर (धा १२; सुपा २१; १०४) ।

पञ्चुत्थ वि [ दे ] प्रत्युत्थ, फिर से बोया हुआ (दे ६, १३) ।

पञ्चुत्थय } वि [ प्रत्यवस्तृत ] आच्छादित  
पञ्चुत्थय } (शाया १, १—पत्र १३, २०; कप्प) ।

पञ्चुद्धरिअ वि [ दे ] संमुखागत, सामने आया हुआ (दे ६, २४) ।

पञ्चुद्धार पुं [ दे ] संमुख आगमन (दे ६, २४) ।

पञ्चुप्पण्ण } वि [ प्रत्युत्पन्न ] वर्त्तमान काल-  
पञ्चुप्पन्न } संबन्धी (पि ५१६; भग; शाया १; ८; सम्म १०३) । 'नय पुं [ नय ] वर्त्तमान वस्तु को ही सत्य माननेवाला पक्ष, निश्चय नय (विसे ३१६१) ।

पञ्चुप्पन्न पुं [ प्रत्युत्पन्न ] वर्त्तमान काल (सुप्र १, २, ३, १०) ।

पञ्चुप्फलिअ वि [ प्रत्युत्फलित ] वापस आया हुआ (से १४, ८१) ।

पञ्चुव्भड वि [ प्रत्युव्भट ] अतिशय प्रबल (संवीव ५३) ।

पञ्चुरस न [ प्रत्युरस ] हृदय के सामने (राज) ।

पञ्चुल्लं अ [ दे. प्रत्युत् ] प्रत्युत्; उल्ला; 'न तुमं व्ठो, पञ्चुल्लं ममं पूएसि' (वव १) ।

पञ्चुवकार देवो पञ्चुवयार (नाट—मुच्छ २५५) ।

पञ्चुवगच्छ सक [ प्रत्युप + गम् ] सामने जाना । पञ्चुवगच्छइ (भग) ।

पञ्चुवगार } पुं [ प्रत्युपकार ] उपकार के  
पञ्चुवयार } बदले उपकार (ठा ४, ४; पउम ४६, ३६; स ४४०; प्राह ) ।

पञ्चुवयारि वि [ प्रत्युपकारिन् ] प्रत्युपकार करनेवाला (सुपा ५६५) ।

पञ्चुवेक्ख सक [ प्रत्युप + ईक्ष ] निरीक्षण करना । पञ्चुवेक्खेइ (औप) । संक. पञ्चुवेक्खित्ता (औप) ।

पञ्चुवेक्खिय वि [ प्रत्युपेक्षित ] अवलोकित, निरीक्षित (स ४४१) ।

पञ्चुहिअ वि [ दे ] प्रस्तुत, प्रक्षरित, श्रेष्ठो तरह चूने या टपकनेवाला (दे ६, २५) ।

पञ्चुह न [ दे ] थाल, थार, भोजन करने का पात्र, बड़ी धाली (दे ६, १२) ।

पञ्चूस [ दे ] देवो पञ्चूह = (दे); 'किडएहि पयत्तेणवि द्वाइज्जइ कह णु पञ्चूसो?' (सुर ३, १३४) ।

पञ्चूस } पुं [ प्रत्युष ] प्रभात काल (हे ३,  
पञ्चूह } १४; शाया १, १; गा ६०४) ।

पञ्चूह पुंन [ प्रत्यूह ] विघ्न, अन्तराय (पात्र; कुप्र ५२) ।

पञ्चूह पुं [ दे ] सूर्य, रवि (दे ६, ५; गा ६०४; पात्र) ।

पञ्चेअन [ प्रत्येक ] प्रत्येक, हर एक (पड) ।

पञ्चेड न [ दे ] मुसल (दे ६, १५) ।

पञ्चेडिअ (अप) देवो पञ्चडिअ (भवि) ।

पञ्चोगिल सक [ प्रत्यव + गिल ] आस्वादन करना, रस या स्वाद लेना । वक्र. पञ्चोगिल-माण (कस ५, १०) ।

पञ्चोष्णामिणी वी [ प्रत्यवनामिनी ] विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से वृक्ष आदि फल देने के लिए स्वयं नीचे नमते हैं (उप पृ १५५) ।



पच्चोणियत्त वि [प्रत्यवनिवृत्त] ऊँचा उछल कर नीचे गिरा हुआ (पएह १, ३—पत्र ४५)।

पच्चोणिवय अक [प्रत्यवनि + पत्] उछल कर नीचे गिरना। वक्र. पच्चोणिवयंत (ओप)।

पच्चोणी [दे] देखो पच्चोवणी (स २३५; ३०२; सुपा ६१; २२४; २७६)।

पच्चोयड न [दे] १ तट के समीप का ऊँचा प्रदेश (जीव ३)। २ वि. आच्छादित (राय)।

पच्चोयर सक [प्रत्यय + त्] नीचे उतरना। पच्चोयरइ (आचा २, १५, २८)। संक्र. पच्चोयरित्ता (आचा २, १५, २८)।

पच्चोरुभ } सक [प्रत्यय + रुह्] नीचे  
पच्चोरुह् } उतरना। पच्चोरुभइ (गाया १, १)। पच्चोरुहइ (कप्प)। संक्र. पच्चोरुहित्ता (कप्प)।

पच्चोवणिअ वि [दे] संमुख आया हुआ (दे ६, २४)।

पच्चोवणी छी [दे] संमुख आगमन (दे ६, २४)।

पचोसक अक [प्रत्यय + च्चक्] १ नीचे उतरना। २ पीछे हटना। पचोसकइ, पचोसकंति (उवा; पि ३०२; भग)। संक्र. पच्चोसकित्ता (उवा; भग)।

पच्छ सक [प्र + अर्थय] प्रार्थना करना। कवक्र. पच्छज्जमाण (कप्प, ओप)।

पच्छ वि [पथ्य] १ रोगी का हितकारी आहार (हे २, २१; प्राप्र; कुमा; स ७२४; सुपा ५७६)। २ हितकारक, हितकारी; 'पच्छा वाया' (गाया १, ११—पत्र १७१)।

पच्छ न [पश्चात्] १ चरम, शेष (चंद १)। २ पीछे, पृष्ठ भाग। ३ पश्चिम दिशा; 'पुब्बेण सएण पच्छेण वंजुला दाहिणेण वडविडओ' (वजा ६६)। ओ अ [तस्] पीछे, पीठ की ओर; 'हत्थी वेणेण पच्छओ लग्गो' (महा); 'वहइ व महीअलमरिओ गोल्लेइ व पच्छओ वरेइ व पुरओ' (सि १०, ३०); 'तो चेडयाओ तक्खणमाणावेअण पच्छओ वाहं वदं दंसइ' (सुपा २२१)।

कम्म न [कर्मन्] १ अनन्तर का कर्म, वाद की क्रिया। २ यतियों की भिक्षा का एक दोष, दातु-कर्तृक दान देने के बाद की पात्र को साफ करने यादि क्रिया (ओघ ५१६)।

३ चरम, शेष (हे २, २१)। ४ पश्चिम दिशा (गाया १, ११)। उक्त वि [आयुक्त] जिसका आयोजन पीछे से किया गया हो वह (कप्प)। कड पुं [कृत] साधुपन को छोड़कर फिर गृहस्थ बना हुआ (द्र ५०; वृह १)। कम्म देखो पच्छकम्म (पि ११२)। गिवाइ देखो निवाइ (राज)। गुताव पुं [अनुताप] पश्चात्ताप, अनुताप; 'पच्छाणुतावेण सुमज्जवसाणेण' (आवम)। पुपुञ्जी छी [आनुपूर्वी] उलटा क्रम (अणु; कम्म ४, ४३)। ताव पुं [ताप] अनुताप, अनुशय (कुमा)।

पच्छइ } (अप) अ [पश्चात्] ऊपर देखो  
पच्छए } (हे ४, ४२०; पड; भवि)। ताव पुं [ताप] अनुताप, अनुशय (कुमा)।

पच्छंद सक [गम्] जाना, गमन करना। पच्छंदइ (हे ४, १६२)। पच्छंदि वि [गन्तु] गमन करनेवाला (कुमा)।

पच्छंभाग पुं [पश्चाद्भाग] १ दिवस का पिछला भाग (राज)। २ पुंन. नक्षत्र-विशेष, चन्द्र पृष्ठ देकर जिसका भोग करता है वह नक्षत्र (ठा ६)।

पच्छण लीन [प्रतक्षण] त्वक् का वारीक विदारण, चाकू आदि से पतली छाल निकालना; 'तच्छणेहि य पच्छणेहि य' (विपा १, १); 'तच्छणाहि य पच्छणाहि य' (गाया १, १३)।

पच्छण वि [प्रच्छन्न] गुप्त, अप्रकट, (गा १८३)। पइ पुं [पति] जाय, उपपत्ति, यार (सूत्र १, ४, १)।

पच्छद देखो पच्छय (ओप)। पच्छदण न [प्रच्छदन] आस्तरण, चादर—शय्या के ऊपर का आच्छादन-वस्त्र; 'सुप्पच्छदणाए सप्याए णिहं ण लभामि' (स्वप्न ६०)।

पच्छन्न देखो पच्छण (उव; सुर २, १८४)। पच्छय पुं [प्रच्छद] वस्त्र-विशेष, दुपट्टा, पिछौरी (गाया १, १६)।

पच्छयण देखो पत्थयण (\*\*\* )। पच्छयण देखो पत्थयण (मोह ८०)। पच्छल्लिड (अप) देखो पच्चल्लिड (पड)।

पच्छा अ [पश्चात्] १ अनन्तर, बाद, पीछे (सुर २, २४४; पात्र; प्रासू ५७); 'पच्छा तस्स विवागे व्थंति कलुणं महादुक्खा' (प्रासू १२६)। २ परलोक, परजन्म; 'पच्छा

कडुयविवागा' (राज)। ३ पिछला भाग, पृष्ठ। ४ चरम, शेष (हे २, २१)। ५ पश्चिम दिशा (गाया १, ११)। उक्त वि [आयुक्त] जिसका आयोजन पीछे से किया गया हो वह (कप्प)। कड पुं [कृत] साधुपन को छोड़कर फिर गृहस्थ बना हुआ (द्र ५०; वृह १)। कम्म देखो पच्छकम्म (पि ११२)। गिवाइ देखो निवाइ (राज)। गुताव पुं [अनुताप] पश्चात्ताप, अनुताप; 'पच्छाणुतावेण सुमज्जवसाणेण' (आवम)। पुपुञ्जी छी [आनुपूर्वी] उलटा क्रम (अणु; कम्म ४, ४३)। ताव पुं [ताप] अनुताप, अनुशय (कुमा)। ताविय वि [तापिक] पश्चात्तापवाला (पएह २, ३)। निवाइ वि [निपातिन्] १ पीछे से गिर जानेवाला। २ चारित्र ग्रहण कर वाद में उससे च्युत होनेवाला (आचा)। भाग पुं [भाग] पिछला हिस्सा (गाया १, १)। मुह वि [मुख] परामुख, जिसने मुँह पीछे की तरफ फेर लिया हो वह (था १२)। यव, याव देखो ताव (पउम ६५, ६६; सुर १५, १४५; सुपा १२१, महा)। यावि वि [तापिन्] पश्चात्ताप करनेवाला (उप ७२८ ठी)। वाय पुं [वात] पश्चिम दिशा का पवन। २ पीछे का पवन (गाया १, ११)। संखडि छी [दे-संस्कृति] १ पिछला संस्कार। २ मरण के उपलक्ष्य में जाति—कुटुंबी वगैरह प्रभूत मनुष्यों के लिए पकायी जाती रसोई (आचा २, १, ३, २)। संथव पुं [संस्तव] १ पिछला संबन्ध, छी, पुत्री वगैरह का संबन्ध। २ जैन मुनियों के लिए भिक्षा का एक दोष, श्वशुर आदि पक्ष में अच्छी भिक्षा मिलने की लालच से पहले भिक्षार्थ जाना (ठा ३, ४)। संथुय वि [संस्तुत] पिछले संबन्ध से परिचित (आचा २, १, ४, ५)। हुत्त वि [दे] पीछे की तरफ का; 'धलमत्थयम्मि पच्छा-हुत्ताई पयाई तीए ददुहण' (सुपा २८१)। पच्छा छी [पथ्या] हरे, हरीतकी (हे २, २१)।

पच्छाअ सक [प्र + छदय] १ ढकना। २ छिपाना। वक्र. पच्छाअंत (सि ६, ४६; ११, ६)। क. पच्छाइज्ज (वसु)।

पच्छाअ सक [प्र + छदय] १ ढकना। २ छिपाना। वक्र. पच्छाअंत (सि ६, ४६; ११, ६)। क. पच्छाइज्ज (वसु)।

पच्छाअ सक [प्र + छदय] १ ढकना। २ छिपाना। वक्र. पच्छाअंत (सि ६, ४६; ११, ६)। क. पच्छाइज्ज (वसु)।

पच्छाअ सक [प्र + छदय] १ ढकना। २ छिपाना। वक्र. पच्छाअंत (सि ६, ४६; ११, ६)। क. पच्छाइज्ज (वसु)।

पच्छाअ सक [प्र + छदय] १ ढकना। २ छिपाना। वक्र. पच्छाअंत (सि ६, ४६; ११, ६)। क. पच्छाइज्ज (वसु)।

पच्छाअ सक [प्र + छदय] १ ढकना। २ छिपाना। वक्र. पच्छाअंत (सि ६, ४६; ११, ६)। क. पच्छाइज्ज (वसु)।

पच्छाअ सक [प्र + छदय] १ ढकना। २ छिपाना। वक्र. पच्छाअंत (सि ६, ४६; ११, ६)। क. पच्छाइज्ज (वसु)।

पच्छाअ सक [प्र + छदय] १ ढकना। २ छिपाना। वक्र. पच्छाअंत (सि ६, ४६; ११, ६)। क. पच्छाइज्ज (वसु)।

पच्छाअ सक [प्र + छदय] १ ढकना। २ छिपाना। वक्र. पच्छाअंत (सि ६, ४६; ११, ६)। क. पच्छाइज्ज (वसु)।

पच्छाअ सक [प्र + छदय] १ ढकना। २ छिपाना। वक्र. पच्छाअंत (सि ६, ४६; ११, ६)। क. पच्छाइज्ज (वसु)।

पच्छाअ सक [प्र + छदय] १ ढकना। २ छिपाना। वक्र. पच्छाअंत (सि ६, ४६; ११, ६)। क. पच्छाइज्ज (वसु)।

पच्छाअ सक [प्र + छदय] १ ढकना। २ छिपाना। वक्र. पच्छाअंत (सि ६, ४६; ११, ६)। क. पच्छाइज्ज (वसु)।

पञ्चाभ वि [प्रञ्चाय] प्रचुर छायावाला (अभि ३६)।  
 पञ्चाइअ वि [प्रञ्चादित] १ ढका हुआ, आञ्चादित। २ छिपाया हुआ (पात्र; भवि)।  
 पञ्चाइअ देवो पञ्चाअ = प्र + छाद्य्।  
 पञ्चाग पुं [प्रञ्चादक] पात्र बांधने का कपड़ा (श्रौच २६५ भा)।  
 पञ्चाडिद (शौ) वि [प्रक्षाडित] बोया हुआ (नाट—मृच्छ २५५)।  
 पञ्चाणिअ [दे] देवो पञ्चोवणिअ (पङ्)।  
 पञ्चाणुताविअ वि [पञ्चादनुतापिक] पञ्चा-ताप-युक्त, पञ्चतापा करनेवाला (राय १४२)।  
 पञ्चादो (शौ) देवो पञ्चा = पथात् (पि ६६)।  
 पञ्चायण न [पथ्यदन] पायेय, रास्ते में खाने का भोजन; 'वहणं करियं पञ्चायणस्त मारियं' (महा)।  
 पञ्चायण न [प्रञ्चादन] १ आञ्चादन, ढकना। २ वि. आञ्चादन करनेवाला। °या ली [°ता] आञ्चादन; 'परखणपञ्चायणया' (उव)।  
 पञ्चाल देवो पञ्चाल। पञ्चलेइ (काल)।  
 पञ्चि ली [दे] पिटिका, पिटाशे, वेत्रादि-रचित भाजन-विशेष (दे ६, १)। °पिडय न [°पिटक] 'पञ्ची' रूप पिटाशे (भग ७, ८ टी—पत्र ३१३)।  
 पञ्चि (अप) देवो पञ्चइ (हे ४, ३८८)।  
 पञ्चिज्जमाण देवो पञ्च = प्र + अर्थय्।  
 पञ्चिज्जत न [प्रायश्चित] १ पाप की शुद्धि करनेवाला कर्म, पाप का क्षय करनेवाला कर्म (उव; सुपा ३६६; द्र ५२)। २ मन को शुद्ध करनेवाला कर्म (पंचा १६, ३)।  
 पञ्चिज्जित्ति वि [प्रायश्चित्तिन्] प्रायश्चित्त का भागी, दोषी (उप ३७६)।  
 पञ्चिम न [पश्चिम] १ पश्चिम दिशा (उपा ७४ टि)। २ वि. पश्चिम दिशा का, पाश्चात्य (महा; हे २, २१; प्राप्र)। ३ पिछला; वाद का; 'दियसस्स पञ्चिमे माए' (कप्प)। ४ अन्तिम, चरम; 'पुरिमपञ्चिमगाणं तित्थ-गाणं' (सम ४४)। °इ न [°थि]

उत्तरार्ध, उत्तरी आधा हिस्सा (महा; ठा २, ३—पत्र ८२)। °सेल पुं [°शैल] अस्ताचल पर्वत (गउड)।  
 पञ्चिमा ली [पश्चिमा] पश्चिम दिशा (कुमा; महा)।  
 पञ्चिमिह वि [पाश्चात्य] पीछे से उत्पन्न, पीछे का (विसे १७६५)।  
 पञ्चियापिडय देवो पञ्चि-पिडय (राय १४०)।  
 पञ्चिल (अप) देवो पञ्चिम (भवि)।  
 पञ्चिल्ल } वि [पश्चिम, पाश्चात्य] १ पञ्चिल्लय } पश्चिम दिशा का। २ पिछला, पृष्ठवर्ती (पि ५६५, ५६५ टि ४)।  
 पञ्चुत्ताव पुं [परचाटुत्ताप] पञ्चतावा, परचाताप (संमत १६०; धर्मवि ३५, १२२; १३०)।  
 पञ्चुत्ताविअ (अप) वि [परचात्तापित] जिसको परचाताप हुआ हो वह (भवि)।  
 पञ्चुकम्म देवो पञ्च-कम्म (हे १, ७६)।  
 पञ्चुणय न [दे] पायेय, रास्ते में निर्वाह करने की भोजन-सामग्री, कलेवा (दे ६, २४)।  
 पञ्चोववण्णग } वि [परचाटुपपन्न] पीछे पञ्चोववन्नक } से उत्पन्न (भग)।  
 पञ्जप सक [प्र + जल्प] बोलना, कहना। पञ्जपह (पि २६६)।  
 पञ्जापावण न [प्रजल्पन] बोलाना, कथन कराना (श्रौच; पि २६६)।  
 पञ्जापिअ वि [प्रजल्पित] कथित, उक्त, कहा हुआ (गा ६४६)।  
 पञ्जण वि [प्रजनन] उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला (राय ११४)।  
 पञ्जण न [प्रजनन] लिंग, पुच्छ-चिह्न (विसे २५७६ टी; श्रौच ७२२)।  
 पञ्जल अक [प्र + ज्वल्] १ विशेष जलना, अतिशय दग्ध होना। २ चमकना। वक्र, पञ्जलंत (भवि)।  
 पञ्जलि वि [प्रजलिन्] अत्यन्त जलनेवाला, 'सियञ्ज्जाणानलपजलिक्कम्मकांतरयूमलइउव्वं' (सुपा १)।  
 पञ्जह सक [प्र + हा] त्याग करना। पञ्जहामि (पि ५००)। क. पञ्जहियव्व (आचा)।

पञ्जाला ली [प्रञ्जाला] अग्नि-शिक्षा, आंग की लौ या लपट (कुप्र ११७)।  
 पञ्जीवग न [प्रजीवन] आजीविका, जीवनो-पाय, रोजी (पिड ४७८)।  
 पञ्जुत्त देवो पञ्जुत्त = प्रयुक्त (चंड)।  
 पञ्जुहिअ वि [प्रयुधिक] घृय या सपूह को दिया हुआ, याचक-गण को अर्पित (आचा २, १, ४, २)।  
 पञ्जेमण न [प्रजेमन] भोजन-ग्रहण, भोजन लेना (राय १४६)।  
 पञ्ज सक [पायय्] पिलाना, पान कराना। पञ्जेइ (विवा १, ६)। कवक. 'तएहाइया ते तउ तंव तत्तां पञ्जिज्जमाणाट्टतरं रंस्सि' (सूत्र १, ५, १, २५)। क. पञ्जेयव्व (भत्त ४०)।  
 पञ्ज न [पद्य] छन्दो-बद्ध वाक्य (ठा ४, ४—पत्र २८७)।  
 पञ्ज न [पाद्य] पाद-प्रक्षालन जल; 'अग्घं च पञ्जं च गहाय' (एयाया १, १६—पत्र २०६)।  
 पञ्ज देवो पञ्जत्त (दं ३३; कम्म ३, ७)।  
 पञ्जंत पुं [पर्यन्त] अन्त, सीमा, प्रान्त भाग (हे १, ५८; २, ६५; सुर ४, २१६)।  
 पञ्जण न [दे] पान, पीना (दे ६, ११)।  
 पञ्जण न [पायन] पिलाना, पान कराना (भग १४, ७)।  
 पञ्जण देवो पञ्जण (सूत्रानि ५७)।  
 पञ्जणुओग पुं [पर्यनुयोग] प्रश्न (धर्मसं पञ्जणुजोग) १७६; २६२)।  
 पञ्जण पुं [पर्यन्य] मेघ, बादल (भग १४, २; नाट. मृच्छ १७५)। देवो पञ्जण।  
 पञ्जतर वि [दे] दलित, विदारित (पङ्)।  
 पञ्जत वि [पर्याप्त] १ 'पर्याप्ति' से युक्त, 'पर्याप्ति' वाला (ठा २, १; पएह १, १; कम्म १, ४६)। २ समर्थ, शक्तिमान्। ३ लब्ध, प्राप्त। ४ काफी, यथेष्ट, उतना जितने से काम चल जाय। ५ न, तृप्ति। ६ सामर्थ्य। ७ निवारण। ८ योग्यता (हे २, २४; प्राप्र)। ९ कर्म-विरोध, जिसके उदय से जीव अपनी अपनी 'पर्याप्तियों' से युक्त होता है वह कर्म (कम्म १, २६)। °णाम, °नाम न

[नामन्] अनन्तर उक्त कर्म-विशेष (राज; सम ६७)।

पञ्जत्त न [पर्याप्त] लगातार चौतीस दिन का उपवास (संबोध ५८)।

पञ्जत्तर [दे] देखो पञ्जतर (पद्—पत्र २१०)।

पञ्जत्ति स्त्री [पर्याप्ति] १ शक्ति, सामर्थ्य (सूत्र १, १, ४)। २ जीव की वह शक्ति, जिसके द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करने तथा उनको आहार, शरीर आदि के रूप में बदल देने का काम होता है, जीव की पुद्गलों को ग्रहण करने तथा परिणामाने या पचाने की शक्ति (भग; कम्म १, ४६; नव ४; दं ४)। ३ प्राप्ति, पूर्ण प्राप्ति (दे ५, ६२)। ४ वृत्ति: 'पियदंसणधणजीवियाण को लहइ पज्जति?' (उप ७६८ टी)।

पञ्जत्ति स्त्री [पर्याप्ति] १ पुत्ति, पूर्णता (धर्मवि ३८)। २ अन्त, अवसान (सुल २, ८)।

पञ्जत्त पुं [पर्जन्य] मेघ-विशेष, जिसके एक वार बरसने से भूमि में एक हजार वर्ष तक चिकनाहट रहती है: 'पञ्जु - (?ज) ने एं महामेहे एगे एं वासेणं दस वाससयाइं भावेति' (ठा ४, ४—पत्र २७०)।

पञ्जय पुं [दे. प्रार्थक] प्रतितामह, पितामह का पिता; परदादा (भग ६, ३; दस ७; सुर १, १७४; २२०)।

पञ्जय पुं [पर्यय] १ श्रुत-ज्ञान का एक भेद, उत्पत्ति के प्रथम समय में सूक्ष्म-निगोध के लब्धि-अपर्याप्त जीव को जो कुश्रुत का अंश होता है उससे दूसरे समय में ज्ञान का जितना अंश बढ़ता है वह श्रुतज्ञान (कम्म १, ७)। २—देखो पञ्जाय (सम्म १०३; खंदि; वित्ते ४७८; ४८८; ४९०; ४९१)। ३ समास पुं [समास] श्रुतज्ञान का एक भेद, अनन्तर उक्त पर्यय-श्रुत का समुदाय (कम्म १, ७)।

पञ्जयण न [पर्ययण] निश्चय, अवधारण (वित्ते ८३)।

पञ्जर सक [कथय] कहना, बोलना। पञ्जरइ, पञ्जर (हे ४, २; दे ६, २६; कुमा)।

पञ्जरय पुं [प्रजरक] रत्नप्रदान-नामक नरक-शृङ्खली का एक नरकावास (ठा ६—पत्र ३६५)। १ मञ्जक पुं [मध्य] एक नरकावास (ठा ६—पत्र ३६७ टी)। २ वट्टु पुं [वित्त] नरकावास-विशेष (ठा ६)। ३ सिट्टु पुं [वशिष्ट] एक नरकावास, नरक-स्थान-विशेष (ठा ६)।

पञ्जल देखो पजल। पञ्जलेइ (महा)। वड्ड, पञ्जलंत (कम्म)।

पञ्जलण वि [प्रज्वलन] जलानेवाला (ठा ४, १)।

पञ्जलिअ पुं [प्रज्वलित] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ८)।

पञ्जलिय वि [प्रज्वलित] १ जलाया हुआ, दग्ध (महा)। २ खूब चमकनेवाला, देदीप्यमान (गच्छ २)।

पञ्जलिर वि [प्रज्वलित] १ जलनेवाला। २ खूब चमकनेवाला (सुपा ६३८; सण)।

पञ्जलीढ वि [पर्यवलीढ] भक्ति (विचार ३२६)।

पञ्जव पुं [पर्यव] १ परिच्छेद, निर्णय (वित्ते ८३; आवम)। २ देखो पञ्जाय (आचा; भग; वित्ते २७५२; सम्म ३२)। ३ कसिण न [कृत्स्न] चतुर्दश पूर्व-अंश तक का ज्ञान, श्रुतज्ञान-विशेष (पंचमा)। ४ जाय वि [जात] १ मित्र अवस्था को प्राप्त (परह २, ५)। २ ज्ञान आदि गुणोंवाला (ठा १)। ३ न. विषयोपभोग का अनुष्ठान (आचा)। ४ जाय वि [यात] ज्ञान-प्राप्त (ठा १)। ५ द्विय पुं [स्थित, स्थिक, स्थिक] नय-विशेष, द्रव्य को छोड़कर केवल पर्यायों को ही मुख्य माननेवाला पक्ष (सम्म ६)। ६ णय, नय पुं [नय] वही अनन्तर उक्त अर्थ (राज; वित्ते ७५); उप्पज्जति वयंति अ भावा नियमेण पञ्जवनयस्स (सम्म ११)।

पञ्जवण न [पर्यवण] परिच्छेद, निश्चय (वित्ते ८३)।

पञ्जवथाव सक [पर्यव + स्थापय] १ अच्छी अवस्था में रखना। २ विरोध करना। ३ प्रतिपक्ष के साथ वाद करना। पञ्जवथावेदु

(श्री); (मा ३६)। पञ्जवत्थावेहि (पि ५५१)।

पञ्जवसाण न [पर्यवसान] अन्त, अवसान (भग)।

पञ्जवसिअ न [पर्यवसित] अवसान, अन्त; 'अपञ्जवसिए लोए' (आचा)।

पञ्जा देखो पण्णा (हे २, ८३)।

पञ्जा स्त्री [पया] मार्ग, रास्ता; 'नेयं च पडुच समा नावाणं पन्नवणपज्जा' (सम्म १५७; दे ६, १; कुप्र १७६)।

पञ्जा स्त्री [दे] निःश्रेणि, सीढ़ी (दे ६, १)।

पञ्जा स्त्री [पर्याय] अधिकार, प्रबन्ध-भेद (दे ६, १; पात्र)।

पञ्जा देखो पया; 'अगणिएज्जति नाते विज्जा दंडिज्जती नाते पज्जा' प्रासू ६६)।

पञ्जाअर पुं [प्रजागर] जागरण, निद्रा का अभाव (अभि ६६)।

पञ्जाउल वि [पर्याकुल] विशेष आकुल, व्याकुल (स ७२; ६७३; हे ४, २६६)।

पञ्जाभाय सक [पर्या + भाजय] नाग करना। संक. पञ्जाभाइत्ता (राज)।

पञ्जाय पुं [पर्याय] १ समान अर्थ का वाचक शब्द (वित्ते २५)। २ पूर्ण प्राप्ति (वित्ते ८३)। ३ पदार्थ-धर्म, वस्तु-गुण। ४ पदार्थ का सूक्ष्म या स्थूल ह्यान्तर (वित्ते ३२१; ४७६; ४८०; ४८१; ४८२; ४८३; ठा १, १०)। ५ क्रम, परिपाटी (खाया १, १)। ६ प्रकार, भेद (आवम)। ७ अवसर। ८ निर्माण (हे २, २४)। देखो पञ्जय तथा पञ्जव।

पञ्जाय पुं [पर्याय] तात्पर्य, भावावयं, रहस्य (सूत्रनि १३६)।

पञ्जाल सक [प्र + ज्वालय] जलाना, सुलगाना। पञ्जालइ (अभि)। संक. पञ्जालिअ, पञ्जालिऊण (दस ५, १; महा)।

पञ्जालण न [प्रज्वालन] सुलगाना (उप ५६७ टी)।

पञ्जालिअ वि [प्रज्वालित] जलाया हुआ, सुलगाना हुआ (सुपा १५१; प्रासू १८)।

पञ्जिआ स्त्री [दे. प्रार्थिका] १ माता की मातामही; परतानी। २ पिता की मातामही, परदादी (दस ७; हे ३, ४१)।

पञ्जिज्जमाण देखो पज्ज = पायव् ।

पञ्जुट्ट वि [पयुट्ट] फड़फड़ाया हुआ (?) ;  
'भिरउडी ए कथा, कडुअं गालविअं अहरअं ए  
पञ्जुट्ट' (गा ६२१) ।

पञ्जुच्छुअ वि [पयुत्सुक] अति उत्सुक  
(नाट) ।

पञ्जुणसरं न [दे] ऊख के तुल्य एक प्रकार  
का तृण (दे ६, ३२) ।

पञ्जुण पु [प्रद्युन्न] ? श्रीकृष्ण के एक पुत्र  
का नाम (अंत) । २ कामदेव (कुमा) । ३  
वैष्णव शास्त्र में प्रतिपादित चतुर्व्यूह रूप  
विष्णु का एक अंश (हे २, ४२) । ४ एक  
जैनमूर्ति (निचू ?) । देखो पञ्जुन्न ।

पञ्जुत्त वि [प्रयुक्त] जटित, खचित; 'माणिक-  
पञ्जुत्तकरायकडयसणाहेहि' (स ३१२), 'दिव-  
खगचामरपञ्जुत्तकुडंतरालाइ' (स ५६; भवि) ।  
देखो प्रज्जुत्त ।

पञ्जुदास पु [पयुदास] निषेध, प्रतिषेध  
(विसे १८३) ।

पञ्जुन्न देखो पञ्जुण (गाया १, ५; अंत  
१४; कुप्र १८; सुपा ३२) । ५ वि. धनी,  
श्रीमन्त, प्रभूत, वनवाला; 'पञ्जुन्नधोवि  
पडिपुन्नसयलंगो' (सुपा ३२) ।

पञ्जुवट्टा सक [पयुप + स्था] उपस्थित  
होना । हेक्क. पञ्जुवट्टाहुं (श्री) (नाट—  
वेणी २५) ।

पञ्जुवट्टिय वि [पयुपस्थित] उपस्थित,  
मौजूद, हाजिर, तत्पर (उत्त १८, ४५) ।

पञ्जुवास सक [पयुप + आस्] सेवा  
करना, भक्ति करना । पञ्जुवासइ, पञ्जु-  
वासंति (उव; भग) । वक्क. पञ्जुवासमाण  
(गाया १, १; २) । क्वक्क. पञ्जुवासिज्ज-  
माण (सुपा ३७८) । संक्क. पञ्जुवासित्ता  
(भग) । क्क. पञ्जुवासणिज्ज (गाया १,  
१; श्रीप) ।

पञ्जुवासणं न [पयुपासन] सेवा, भक्ति,  
उपासना (भग; स ११६; उप ३५७ टी;  
अभि ३८) ।

पञ्जुवासणया } श्री [पयुपासना] ऊपर  
पञ्जुवासणा } देखो (ठा ३, ३; भग;  
गाया १, १३; श्रीप) ।

पञ्जुवासय वि [पयुपासक] सेवा करनेवाला  
(काल) ।

पञ्जुसण  
पञ्जुसवण } न. देखो पञ्जुसणा (धम्मवि  
पञ्जुसवण } २१; विचार ५३१) ।  
पञ्जूसण

पञ्जुसणाओ [पयुपणा] देखो पज्जोसवणा;  
'परिवसणा पञ्जुसणा पज्जोसवणा य वास-  
वासो य' (निचू १०) ।

पञ्जुसुअ } वि [पयुत्सुक] अति उत्सुक;  
पञ्जूसुअ } विशेष उक्तरिक्त (अभि १०६;  
पि ३२७ ए) ।

पज्जोअ पु [प्रद्योत] ? प्रकाश, उद्योत ।  
२ उजयिनी नगरी का एक राजा (उव) ।  
'गर वि [कर] प्रकाश-कर्ता (सम १;  
(कप्प; श्रीप) ।

पज्जोइय वि [प्रद्योतित] प्रकाशित (उप  
७२८ टी) ।

पज्जोय सक [प्र + द्योतय्] प्रकाशित  
करना । वक्क. पज्जोयंत (चेइय ३२४) ।

पज्जोयण पु [प्रद्योतन] एक जैन आचार्य  
(राज) ।

पज्जोसव अक [परि + वस्] ? वास  
करना, रहना । २ जैनागम-प्रोक्त पयुपणा-  
पर्व. मनाना । पज्जोसवेइ, पज्जोसविति,  
पज्जोसवेंति (कप्प) । वक्क. पज्जोसवंत,  
पज्जोसवेमाण (निचू १०; कप्प) । हेक्क.  
पज्जोसवित्तए, पज्जोसवेत्तए (कप्प;  
कव) ।

पज्जोसवणं न. देखो पज्जोसवणा (पंचा  
१७, ६) ।

पज्जोसवणा श्री [पयुपणा] ? एक ही  
स्थान में वर्षा-काल व्यतीत करना (ठा १०;  
कप्प) । २ वर्षा-काल (निचू १०) । ३ पर्व-  
विशेष, माद्रपद के आठ दिनों का एक प्रसिद्ध  
जैन पर्व; 'काराविओ अमारि पज्जोसवणाइसु  
तिहीसु' (सुणि १०६००; सुर १६, १६१) ।  
'कप्प पु [कल्प] पयुपणा में करने-योग्य  
शास्त्र-विहित आचार, वर्षाकल्प (ठा ५; २) ।

पज्जोसवणा श्री [पर्योसवणा, पयुपशमना]  
ऊपर देखो (ठा १०—पत्र ५०६) ।

पज्जोसविय वि [पयुपित] स्थित, रहा हुआ  
(कप्प) ।

पज्जोसक अक [प्र + भज्जम्] शब्द करना,  
आवाज करना । वक्क. पज्जोसमाण (राज) ।  
पज्जोसट्टिआ श्री [पज्जोसट्टिका] छन्द-विशेष  
(पिंग) ।

पज्जोसक अक [क्षर, प्र + क्षर] भरना,  
टपकना । पज्जोसक (हे ४, १७३) ।

पज्जोस पु [प्रक्षर] प्रवाह-विशेष (पराण २) ।  
पज्जोसण न [प्रक्षरण] टपकना (वज्जा  
१०८) ।

पज्जोसिअ वि [प्रक्षरित] टपका हुआ (पाय;  
कुमा; महा; संधि १५) ।

पज्जोसल देखो पज्जोसक = क्षर । पज्जोसलइ (पिंग) ।  
पज्जोसलिआ देखो पज्जोसट्टिआ (पिंग) ।

पज्जोसय न [प्रध्यात] अतिशय चिन्तन (अणु  
१३६) ।

पज्जोसय वि [प्रध्यात] चिन्तित, सोचा हुआ  
(अणु) ।

पज्जुत्त वि [दे] खचित, जड़ित, जड़ा हुआ  
(पाय) । देखो पज्जुत्त  
पभुंभक देखो पज्जुंभक । वक्क. पभुंभमाण  
(राय ८३) ।

पटउडी श्री [पटकुटी] तंबू, वन-गृह, कपड़-  
कोट (सुर १३, ९) ।

पटल देखो पडल = पटल (कुमा) ।

पटह देखो पडह (प्रति १०) ।

पटिमा (पं. चूपै) देखो पडिमा (पड; पि  
१६१) ।

पटोला श्री [पटोला] बल्लो-विशेष, कोशतकी,  
धारबल्ली (सिदि ६६६) ।

पट्ट सक [पा] पीना, पान करना । पट्टइ  
(हे ४, १०) । भूका. पट्टीअ (कुमा) ।

पट्ट पु [पट्ट] ? पहनने का कपड़ा, 'पट्टो वि  
होइ इको देहपमारोण सो य भइयव्वो' (वृह  
३; श्रीप ३४) । २ रथ्या, मुहल्ला; 'तिएवि  
मालियपट्टे गंतूण करे कया माला' (सुपा  
३७३) । ३ पापाण आदि का तब्बता, फलक;  
'मणिसिलापट्टअसणाहो माहवीमंडवो' (अभि  
२००); 'पिअगुसिलापट्टए उवविट्टा' (स्वप्न  
५२); 'पट्टसंठियपसद्ववित्थिएणपिहुलसोणीओ'  
(जीव ३) । ४ ललाट पर से बँधी जाती एक  
प्रकार की पगड़ी; 'तप्पमिइं पट्टवट्टा रायाणो  
जाया पुवं मउडवट्टा आसो' (महा) । ५

पट्टा, चक्रनामा, किसी प्रकार का श्रविकार-  
पत्र (कुप्र ११; जं ३) । ६ रेशम । ७ पाट,  
सन (गा ५२०; कप्पु) । ८ रेशमी कपड़ा ।  
९ सन का कपड़ा (कप्प, औप) । १०  
सिंहासन, गद्दी, पाट (कुप्र २८; सुपा २८५) ।  
१२ कलावत्तू (राज) । १३ पट्टी, फोड़ा  
आदि पर बाँधा जाता लम्बा वस्त्रांश।  
पाटा; 'चउरंगुलपमाणपट्टवेण तिरिवच्चालं-  
कियं छाड्यं वच्चद्वयलं' (महा, विपा १, १) ।  
१३ शाक-विशेष (सुज्ज २०) । इल्ल पुं  
[<sup>०</sup>वन्] पटेल, गाँव का मुखिया (जं ३) ।  
उडो लो [<sup>०</sup>कुटी] तंबू, बन्न-गृह (सुर १३,  
१५७) । करि पुं [<sup>०</sup>करिन्] प्रधान हस्ती  
(सुपा ३७३) । कार पुं [<sup>०</sup>कार] तन्तुवाय,  
बन्न बुननेवाला, बुलाहा (परएण १) । वासिआ  
लो [<sup>०</sup>वासिता] एक शिरो-भूषण (दे ४,  
४३) । साला लो [<sup>०</sup>शाला] उपास्य, जैन  
मुनि के रहने का स्थान (सुपा २८५) । सुत्त  
न [<sup>०</sup>सुत्त] रेशमी सूता (आवम) । हस्ति  
पुं [<sup>०</sup>हस्तिन्] प्रधान हाथी (सुपा ३७२) ।  
पट्टइल } पुं [दे] पटेल, गाँव का मुखिया  
पट्टइल } (सुपा २७३; ३६१) ।  
पट्टसुअ न [पट्टांशुक] १ रेशमी वस्त्र । २  
सन का वस्त्र (गा ५२०; कप्पु) ।  
पट्टग देखो पट्ट (कस) ।  
पट्टण न [पत्तन] नगर, शहर (भग; औप;  
प्राप्र; कुमा) ।  
पट्टदेवी लो [पट्टदेवी] पटरानी (सिदि  
१२१२) ।  
पट्टय देखो पट्ट (उवा; राया १, १६) ।  
पट्टसुत्त न [पट्टसूत्त] रेशमी वस्त्र (वमंवि  
७२) ।  
पट्टाढा लो [दे] पट्टा, घोड़े की पेटो, कसन;  
'छोडिया पट्टाढा, ऊसरियं पल्लाणं' (महा;  
सुब १८, ३७) ।  
पट्टिय वि [पट्टिक] पट्टे पर दिया जाता  
गाव चगेरह, 'पुव्विं पट्टियगामम्मि वुट्टद्वयवंधं  
पट्टइलो नरवालो पुव्विं जो आसिं शुत्तोए  
खित्तो' (सुपा २७३) ।  
पट्टिया लो [पट्टिका] १ छोटा तख्ता, पाटो;  
'चित्तपट्टिया' (सुर १, ८८) । २ देखो  
पट्टी; 'सरसणपट्टिमा' (राज—जं ३) ।

पट्टिस पुं [दे. पट्टिरा] प्रहरण-विशेष, एक  
प्रकार का हवियार (परएह १, १; पउम ८,  
४५) ।  
पट्टी लो [पट्टी] १ वतुयंष्टि । २ हस्तपट्टिका,  
हाथ पर की पट्टी; 'उप्पोडियसरसणपट्टिए'  
(विपा १, १—पत्र २४) ।  
पट्टुअ पुं देखो पट्टुया; 'पट्टुएहि'  
(सुब ६, १) ।  
पट्टुया लो [दे] पाद-प्रहार, लात; गुजराती  
में 'पाट्ट'; 'सिरिवच्चो गोणेणं तथाहस्रो  
पट्टुयाए हियम्मि' (सुपा २३७) । देखो  
पट्टुआ ।  
पट्टुहिअ न [दे] कलुपित जल, गंदा जल;  
'पट्टुहियं जाण कलुजजलं' (पाप्र) ।  
पट्ट वि [प्रष्ट] १ अग्रगामी, अग्रसर, अग्रुआ  
(राया १, १—पत्र १६) । २ कृशल, निपुण ।  
३ प्रधान, मुखिया (औप; राज) ।  
पट्ट वि [स्पृष्ट] जिसका स्पर्श किया गया हो  
वह (औप) ।  
पट्ट न [प्रष्ट] १ पीठ, शरीर के पीछे का  
भाग (राया १, ६; कुमा) । २ तल, ऊपर  
का भाग; 'तलिमं पट्टं च तलं' (पाप्र) ।  
चर वि [चर] अनुयायी, अनुगामी (कुमा) ।  
पट्ट वि [प्रष्ट] १ जिसको पूछा गया हो  
वह । २ न. प्रश्न, सवाल, 'छव्विहे पट्टे  
परएणत्ते' (ठा ६—पत्र ३७५) ।  
पट्टयं सक [प्र+स्थापय] १ प्रस्थान  
कराना, भेजना । २ प्रवृत्ति कराना । ३  
प्रारम्भ करना । ४ प्रकर्म से स्थापना करना ।  
५ प्रायश्चित्त देना । पट्टवइ (हे ४, ३७) ।  
भूका. पट्टवइसु (कप्प) । क. पट्टवियत्तव  
(कस; सुपा ६२७) ।  
पट्टवग देखो पट्टवय (कम्म ६, ६६ टी) ।  
पट्टवण न [प्रस्थापन] १ प्रकृत स्थापन ।  
२ प्रारम्भ; 'इमं पुण पट्टवणं पट्टुच्चं' (अणु) ।  
पट्टवणा लो [प्रस्थापन] १ प्रकृत स्थापना ।  
२ प्रायश्चित्तप्रदान; 'दुविहा पट्टवणा खलु'  
(वव १) ।  
पट्टवय वि [प्रस्थापक] १ प्रवर्तक, प्रवृत्ति  
करनेवाला (राया १, १—पत्र ६३) । २  
प्रारम्भ करनेवाला (वित्ते ६२७) ।

पट्टविअ वि [प्रस्थापित] भेजा हुआ (पाप्र;  
कुमा) । २ प्रवर्तित (निवू २०) । ३ स्थिर  
किया हुआ (भग १२, ४) । ४ प्रकर्म से  
स्थापित, व्यवस्थापित (परएण २१) ।  
पट्टविइया } लो [प्रस्थापिता] प्रायश्चित्त-  
पट्टविया } विशेष, अनेक प्रायश्चित्तों में  
जिसका पहले प्रारम्भ किया जाय वह (ठा  
५, २; निवू २०) ।  
पट्टाअ देखो पट्टाय । वक्क. पट्टापंत (गा  
४४०) ।  
पट्टाण न [प्रस्थान] प्रयाण (सुपा १४२) ।  
पट्टाय देखो पट्टय । पट्टावइ (हे ४, ३७) ।  
पट्टावइ (नि ५५३) ।  
पट्टाविअ देखो पट्टविअ (हे ४, १६; कुमा;  
पि ३०६) ।  
पट्टि लो देखो पट्ट = पृष्ठ (गठड; सण) । मंस  
न [मांस] पीठ का मांस (परएह १, २) ।  
पट्टिअ वि [प्रस्थित] जिसने प्रस्थान किया  
हो वह, प्रयात (दे ४, १६; औप ८१ ना;  
सुपा ७८) ।  
पट्टिअ वि [दे] अलंकृत, विभूषित (पड) ।  
पट्टिअकाम वि [प्रस्थालुक्काम] प्रयाण का  
इच्छुक (था १४) ।  
पट्टिसंग न [दे] ककुद, बैल के कंधे पर  
का कूवड़, डिल्ला (दे ६, २३) ।  
पट्टी देखो पट्टि (महा; काल) ।  
पट्टीवंस पुं [पट्टवंस] चर के मूल दो खंभों  
पर तिरछा रखा जाता बड़ा खम्भा (पव  
१३३) ।  
पठ देखो पड । पठदि (शौ) (नाट—मृच्छ  
१४०) । पठत्ति (पिग) । कर्म. पठाविअइ  
(पि ३०६; ५५१) ।  
पठग देखो पाठग (कप्प) ।  
पड अक [पत्त] पड़ना, गिरना । पडइ  
(उक; पि २१८; २४४) । वक्क. पडंत,  
पडमाण (गा २६४; महा; भवि; वृह ६) ।  
संक्र. पडिअ (नाट—शकु ६७) । क.  
पडणीअ (काल) ।  
पड पुं [पट] वक्क. कपड़ा (औप; उव; स्वप्न  
८५; स २२६; ना १८) । कार देखो गार  
(राज) । कुंडो लो [कुटी] तंबू, बन्न-गृह  
(दे ६, ६; ती ३) । गार पुं [कार]

तनुवाय, कपड़ा बुननेवाला (परह १, २—  
पत्र २८) । 'बुद्धि वि [बुद्धि] प्रभूत  
सूत्राओं को ग्रहण करने में समर्थ बुद्धिवाला  
(श्रीप) । 'मंडव पु' [मण्डप] तंत्र, वक्र-  
मण्डप (आक) । 'मा वि [वत्] पटवाला,  
वक्रवाला (पट) । 'वास पु' [वास] वक्र  
में डाला जाता कुंकुम-चूर्ण आदि  
सुगन्धित पदार्थ (गडड; स ७३) । 'साडय  
पु' [शाटक] १ वक्र, कपड़ा । २ घांती,  
पहनने का लम्बा वक्र (भग २, ३३) । ३  
घांती और दुपट्टा (शाया १, १—पत्र ५३) ।  
पडंचा श्री [दे. प्रत्यञ्चा] ज्या, घनुप का  
चिल्ला या डोरो (दे ६, १४; पात्र) ।  
पडंसुअ देखो पडिसुद (पि ११५) ।  
पडंसुआ श्री [प्रतिश्रुत्] १ प्रतिशब्द,  
प्रतिव्यक्ति (हे १, ८८) । २ प्रतिज्ञा (कुमा) ।  
पडंसुआ श्री [दे] ज्या, घनुप का चिल्ला  
(दे ६, १४) ।  
पडंसुत्त देखो पडिसुद (प्राह ३२) ।  
पडचर पुं [दे] साला जैसा विद्वपक आदि  
(दे ६, २५) ।  
पडचर पुं [पटचर] चोर, तस्कर (नाट—  
मुच्छ १३८) ।  
पडञ्जमाण देखो पडह = प्र + दह् ।  
पडण न [पतन] पात, गिरना (शाया १,  
१; प्रासू १०२) ।  
पडणीअ वि [प्रत्यनीक] विरोधी, प्रतिपक्षी,  
वैरी (स ४६६) ।  
पडणीअ देखो पड = पत् ।  
पडपुत्तिया श्री [पटपुत्तिका] छोटा वक्र,  
रमाल (संनोव ५) ।  
पडम देखो पडम (पि १०४; नाट—शकु ६८) ।  
पडल न [पटल] १ समूह, संघात, वृन्द  
(कुमा) । २ जैन साधुओं का एक उपकरण,  
मिस्रा के समय पात्र पर ढका जाता वक्र-  
खण्ड (परह २, ५—पत्र १४८) ।  
पडल न [दे] नीत्र, नरिया, मिट्टी का बना  
हुआ एक प्रकार का खपड़ा जिससे मकान  
छाए जाते हैं (दे ६, ५; पात्र) ।  
पडलगा } श्रीन [दे. पटलक] गठरी, गाँठ;  
पडलय } गुजराती में 'पोटु', 'पोटली' ;

'पुष्पपडलगहत्याओ' (शाया १, ८) । श्री.  
'ल्लिगा, ल्लिया (स २१३; सुपा ६) ।  
पडचा श्री [दे] पट-कुटी, पट-मण्डप, वक्र-  
गृह, तंत्र (दे ६, ६) ।  
पडह सक [प्र + दह्] जलाना, दमक  
करना । कवक. पडञ्जमाण (परह १, २) ।  
पडह पुं [पटह] वाद्य-विशेष, नगाड़ा, ढोल  
(श्रीप; एंदि; महा) ।  
पडह्थर वि [दे] पूर्ण भरा हुआ (स १८०) ।  
पडहिय पुं [पाटहिक] ढोल बजानेवाला,  
ढोली, ढोलकिया (परम ४८, ८६) ।  
पडहिया श्री [पटहिया] छोटा ढोल (सुर  
३, ११५) ।  
पडाअ देखो पलाय = परा + अय । क.  
पडाअञ्च (स १४, १२) ।  
पडाअ वि [पलायित] जिसने पलायन  
किया हो वह भागा हुआ (स १५, १५) ।  
पडाअञ्च देखो पडाअ ।  
पडाइया श्री [पताकिका] छोटी पताका,  
अन्तर-पताका (कुप्र १४५) ।  
पडाग पुं [पटाक, पताक] पताका, ध्वजा  
(कम्प; श्रीप) ।  
पडागा } श्री [पताका] ध्वजा, ध्वज (महा;  
पडाया } पात्र; हे १, २०६; प्राप्र; गडड) ।  
'इपडाग पु' [पतिपताक] १ मत्स्य की  
एक जाति (विपा १, ८—पत्र ८३) । २  
पताका के ऊपर की पताका (श्रीप) । 'हरण  
न [हरण] विजय-प्राप्ति (संनोव) ।  
पडागार न [ ] नौका में लगने-  
वाला वक्र (दशवै० सू० १ प्रारम्भ और अग०  
१११) ।  
पडायाण देखो पडाण (हे १, २५२) ।  
पडायाणिय वि [पर्याणित] जिस पर पर्याण  
वांछा गया हो वह (कुमा २, ६३) ।  
पडाली श्री [दे] १ पंक्ति, श्रेणी (दे ६,  
६) । २ घर के ऊपर की चटाई आदि की  
कच्ची छत (वव ७) ।  
पडास देखो पलास (नाट—मुच्छ २४३) ।  
पडि वि [पटिन्] वक्रवाला (अणु १४४) ।  
पडि अ [प्रति] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ प्रकृत्य (वव १) । २ सम्पूर्णता (चेडय  
७८२) ।

पडि अ [प्रति] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ विरोध, 'पडिवक्ख', 'पडिवासुदेव' (गडड;  
परम २०, २०२) । २ विशेष, विशिष्टता;  
'पडिमंजरिवाडिसय' (श्रीप) । ३ वीप्सा, व्याप्ति;  
'पडिदुवार', 'पडिपेल्लण' (परह १, ३; से ६,  
३२) । ४ वापस, पीछे; 'पडिगय' (विपा  
१, १; भग; सुर १, १४६) । ५ आभिमुख्य,  
संमुखता; 'पडिविरद', 'पडिवद्ध' (परह २,  
२; गडड) । ६ प्रतिदान, बदला; 'पडिदेइ'  
(विने ३२४१) । ७ फिर से; 'पडिपडिय',  
'पडिवविय' (सार्ध ६४; दे ६, १३) । ८  
प्रतिनिविपन; 'पडिच्छंद' (उप ७२८ टो) ।  
९ प्रतिपेध, निषेध; 'पडियाइक्खिय' (भग;  
सम ५६) । १० प्रतिकूलता, विपरीतता;  
'पडिवय' (से २, ४६) । ११ स्वभाव;  
'पडिवाइ' (ठा २, १) । १२ सामीप्य, निक  
टता; 'पडिवेसिअ' (सुपा ५५२) । १३  
आधिक्य, अतिशय; 'पडियाएंद' (श्रीप) । १४,  
सादर्य, तुल्यता; 'पडिइंद' (परम १०५,  
१११) । १५ लघुता, छोटाई; 'पडिदुवार'  
(कम्प; परण २) । १६ प्रशस्तता; 'डाया;  
'पडिक्ख' (जीव ३) । १७ सांप्रतिकता,  
वर्तमानता (ठा ३, ४—पत्र १५८) । १८  
निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है, 'पडिइंद'  
(परम १०५, ६); 'पडिउचारेयव्व' (भग) ।  
पडि देखो परि (से ४, ५०; ५, १६; ६६;  
अंत ७) ।  
पडिअ वि [दे] विघटित, वियुक्त (दे ६, १२) ।  
पडिअ वि [पतित] १ गिरा हुआ (गा ११;  
प्रासू ५; १०१) । २ जिसने चलने को  
प्रारम्भ किया हो वह; 'आणयमग्गेण य  
पडिओ' (वसु) ।  
पडिअ देखो पड = पत् ।  
पडिअंकिअ वि [प्रत्यङ्कित] १ विभूषित ।  
२ उपलिप्त; 'वहुधणवुसिएणकि पडियंकिओ'  
(मवि) ।  
पडिअंतअ पुं [दे] कर्मकर, नौकर (दे  
६, ३२) ।  
पडिअग सक [अनु + व्रज्] अनुसरण  
करना, पीछे जाना । पडिअगइ (हे ४,  
१०७; पड्) ।

-पडिअग्ग सक [प्रति + जागु] ? सम्हालना ।  
 २ सेवा करना, भक्ति करना । ३ श्रुतपूर्वा  
 करना; 'बच्छ ! पडियग्गेहि मण्णिमोत्तिवाइयं  
 सारदव्वं' (स २८८), पडियग्गह (स ५४८) ।  
 पडिअग्गिअ वि [दे] ? परिभुक्त, जिसका  
 परिभोग किया गया हो वह । २ जिसको  
 बधाई दी गई हो वह । ३ पालित, रक्षित  
 (दे ६, ७४) ।  
 पडिअग्गिअ वि [अनुव्रजित] अनुव्रजित  
 (दे ६, ७४) ।  
 पडिअग्गिअ वि [प्रतिजागृत] भक्ति से  
 आहत (स २१) ।  
 पडिअग्गार वि [अनुव्रजिन्] अनुसरण  
 करने की आहत वाला (कुमा) ।  
 पडिअज्झअ पुं [दे] उपाध्याय, विद्या-दाता  
 गुरु (दे ६, ३१) ।  
 पडिअट्ठलिअ वि [दे] घृष्ट, घिसा हुआ  
 (से ६, ३१) ।  
 पडिअत्त देखो परि + वत्त = परि + वृत् ।  
 संक. पडिअत्तिअ (नाट) ।  
 पडिअत्तण न [परिवर्त्तन] फेरफार,  
 हेरफेर (से ५, ६९) ।  
 पडिअमित्त पुं [प्रत्यमित्र] मित्र-शत्रु, मित्र  
 होकर पीछे से जो शत्रु हुआ हो वह (राज) ।  
 पडिअम्मिय वि [प्रतिकर्मित] मण्डित,  
 विभूषित (दे ६, ३५) ।  
 पडिअर सक [प्रति + चर] ? वीमार  
 की सेवा करना । २ आदर करना । ३  
 निरीक्षण करना । ४ परिहार करना । संक.  
 पडियरिऊण (निचू १) ।  
 पडिअर सक [प्रति + कू] ? बदला चुकाना ।  
 २ इलाज करना । ३ स्वीकार करना । हे.क.  
 पडिकाउं (गा ३२०) । संक. 'तहत्ति  
 पडिकाऊण ठाविओ एसो' (कुप्र ४०) ।  
 पडिअर पुं [दे] चुल्लो-मूल, चुल्हे का मूल  
 भाग (दे ६, १७) ।  
 पडिअर पुं [परिकर] परिवार, 'पडियरि  
 (? २) खो पुरिसो व्व नियत्तो तेहि चैव  
 पएहि नलो' (कुप्र ५७) ।  
 पडिअरग वि [प्रतिचारक] सेवा-श्रुतपूर्वा  
 करनेवाला (निचू १; वव १) ।

पडिअरण न [प्रतिचरण] सेवा, श्रुतपूर्वा  
 (शोध ३६ भा; था १; सुपा २६) ।  
 पडिअरणा लो [प्रतिचरणा] ? वीमार की  
 सेवा-श्रुतपूर्वा (शोध ८३) । २ भक्ति, आदर,  
 सत्कार (उप १३६ टी) । ३ आलोचना,  
 निरीक्षण (शोध ८३) । ४ प्रतिक्रमण, पाप-  
 कर्म से निवृत्ति । ५ उत्त-कार्य में प्रवृत्ति  
 (आव ४) ।  
 पडिअलि वि [दे] स्वरित, वेग-युक्त (दे  
 ६, २८) ।  
 पडिआइय सक [प्रत्या + पा] फिर से पान  
 करना । पडिआइयइ (दस १०, १) ।  
 पडिआइय सक [प्रत्या + दा] फिर से ग्रहण  
 करना । पडिआइयइ (दस १०, १) ।  
 पडिआगय वि [प्रत्यागत] ? वापस आया  
 हुआ, लौटा हुआ (पउम १६, २६) । २ न.  
 प्रत्यागमन, वापस आना (आचू १) ।  
 पडिआयण न [प्रत्यापन] फिर से पान,  
 'वंतस्स य पडिआयणं' (दसवू १, १) ।  
 पडिआयण न [प्रत्यादान] फिर से ग्रहण  
 (दसवू १, १) ।  
 पडिआर पुं [प्रतिकार] ? चिकित्सा, उपाय,  
 इलाज (आव ४; कुमा) । २ बदला, शोध  
 (आचा) । ३ पूर्वस्वरित कर्म का अनुभव  
 (सूत्र १, ३, १, ६) ।  
 पडिआर पुं [प्रत्याकार] तलवार की म्यान  
 (दे २, ५; स २१५); 'न एकम्मि पडियारे  
 दोन्नि करवालाइं मायंति' (महा) ।  
 पडिआर पुं [प्रतिचार] सेवा-श्रुतपूर्वा (गाया  
 १, १३—पत्र १७६) ।  
 पडिआरय वि [प्रतिचारक] सेवा-श्रुतपूर्वा  
 करनेवाला (गाया १, १३ टी—पत्र १८१) ।  
 लो. 'रिया (गाया १, १—पत्र २८) ।  
 पडिआरि वि [प्रतिचारिन्] ऊपर देखो  
 (वव १) ।  
 पडिइ संक [प्रति + इ] पीछे लौटना, वापस  
 आना । व.क. पडिइंत (उप ५२७ टी) ।  
 हे.क. पडिएत्तए (कस) ।  
 पडिइ लो [पतिति] पतन, पात. (वव ५) ।  
 पडिइंद पुं. [प्रतीन्द्र] ? इन्द्र, देव-राज  
 (पउम १०५, ६) । २ इन्द्र का सामानिक-  
 देव, इन्द्र के तुल्य वैभववाला देव (पउम

१०५, १११) । ३ वानर-वंश के एक राजा  
 का नाम (पउम ६, १५२) ।  
 पडिइंधण न [प्रतीन्धन] अन्न-विशेष, इत्य-  
 नात्र का प्रतिपक्षी अन्न (पउम ७१, ६४) ।  
 पडिइक्क देखो पडिक्क (आचा) ।  
 पडिउंचण न [दे] अपकार का बदला (पउम  
 ११, ३८; ४४, १६) ।  
 पडिउंचण न [परिचुम्बन] संगम, संयोग  
 (से २, २७) ।  
 पडिउच्चार सक [प्रत्युत् + चारय्] उच्चा-  
 रण करना, बोलना (मगं उवा) ।  
 पडिउच्चम अक [प्रत्युत् + यम्] सम्पूर्ण  
 प्रयत्न करना । पडिउच्चमंति (विइय ७८२) ।  
 पडिउट्ठिअ वि [प्रत्युत्थित] जो फिर से  
 लड़ा हुआ हो वह (से १५, ८०; पउम ६१,  
 ४०) ।  
 पडिउण्ण देखो परिपुण्ण (से ५, १६) ।  
 पडिउत्तर न [प्रत्युत्तर] जवान, उत्तर (सुर  
 २, १५८; भवि) ।  
 पडिउत्तरण न [प्रत्युत्तरण] पार जाना, पार  
 उतरना (निचू १) ।  
 पडिउत्ति लो [दे] खबर, समाचार; 'अम्मा-  
 पियरस्स कुच्चलपडिउत्ती ससिणेहं परिपुट्ठा'  
 (महा) ।  
 पडिउत्थ वि [पर्युपित] संपूर्ण रूप से  
 अवस्थित (से ४, ५०) ।  
 पडिउद्ध वि [प्रतिवुद्ध] ? जागृत, जगा  
 हुआ (से १२, २२) । २ प्रकाश-युक्त; 'जल-  
 णिहिवहपडिउद्धं आअएणाअडिद्धं विअंभइ  
 व वणु' (से ५, २७) ।  
 पडिउवयार पुं [प्रत्युपकार] उपकार का  
 बदला, प्रतिफल (पउम ४८, ७२; सुपा  
 ११५) ।  
 पडिउरसस अक [प्रत्युत् + थस्] पुनर्जी  
 वित होना, फिर से जीना । व.क. पडिउरस-  
 संत (से ६, १२) ।  
 पडिऊल देखो पडिऊल (अचु ८०; से ३,  
 ३५) ।  
 पडिएत्तए देखो पडिइ ।  
 पडिएट्ठिअ वि [दे] कृतार्थ, कृत-कृत्य (दे ६,  
 ३२) ।

पडिओसह न [प्रत्यौपय] एक औपय का प्रतिपत्ती औपय (सम्मत्त १४२)।

पडिमुआ देखो पडिमुआ = प्रतिभुत् (औप)।

पडिसुद वि [प्रतिश्रुत] अंगोक्त, स्वीकृत (प्राप्र; वि ११५)।

पडिकंतय वि [प्रतिकण्टक] प्रतिसर्वो (राय)।

पडिकंत देखो पडिकंत (उप २२० टी)।

पडिकत्तु वि [प्रतिकर्तृ] इलाज करनेवाला (ठा ४, ४)।

पडिकप्प सक [प्रति + कृप्] १ सजाना, सजावट करना; 'खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! कूणियत्स रणो भिभित्तरपुत्तस्स आभित्तेकं हत्थिरयणं पडिकप्पेहि' (औप), पडिकप्पेद (औप)।

पडिकप्पिअ वि [प्रतिकल्प] सजाया हुआ (विपा १, २—पत्र २३; महा; औप)।

पडिकम देखो पडिकम। कृ. 'पडिकमणं पडिकमओ पडिकमिअव्वं च आणुप्पव्वीए' (आनि ४)।

पडिकमय न देखो पडिकमय (आनि ४)।

पडिकम्म न [प्रतिकर्मन्, परिकर्मन्] देखो परिकम्म (औप; सण)।

पडिकय वि [प्रतिकृत] १ जिसका बदला चुकाया गया हो वह। २ न, प्रतिकार, बदला (ठा ४, ४)।

पडिकाउं } देखो पडिअर = प्रति + कृ।  
पडिकाऊण }

पडिकामणा देखो पडिकामणा (औपभा ३६ टी)।

पडिकाय पुं [प्रतिकाय] प्रतिविम्ब, प्रतिमा (वेइय ७५)।

पडिकदि व्ही [प्रतिकृति] १ प्रतिकार, इलाज। २ बदला (दे ६, १६)। ३ प्रतिविम्ब, मूर्ति (अनि १६६)।

पडिकिय न [प्रतिकृत] ऊपर देखो (वेइय ७५)।

पडिकिरिया व्ही [प्रतिक्रिया] प्रतीकार, बदला; 'कयपडिकिरिया' (औप)।

पडिकुट्ट वि [प्रतिकृष्ट] १ निपिड, पडिकुट्टिल्लग, प्रतिपिड (ओघ ४०३; पच ८; सुपा २०७); 'पडिकुट्टिल्लगदिअव्वं वज्जेवा

धट्ठमि च नवमि च' (वव १)। २ प्रतिकूल (स २७०); 'अन्नोन्नं पडिकुट्टा दोत्तिवि एए असव्याया' (सम्म १५३)।

पडिकुट्टेह्लग देखो पडिकुट्टिल्लग (वव १)।

पडिकूड देखो पडिकूल = प्रतिकूल (सुर ११, २०१)।

पडिकूल सक [प्रतिकूलय] प्रतिकूल आचरण करना। वक्र. 'पडिकूलंतस्स मज्झ जिणवयणं' (सुपा २०७; २०६)। कृ. पडिकूलोयव्व (कुप्र २४२)।

पडिकूल वि [प्रतिकूल] १ विपरीत, उलटा (उत्त १२)। २ अनिष्ट, अनभिमत (आचा)। ३ विरोधी, विपक्ष (हे २, ६७)।

पडिकूलणा व्ही [प्रतिकूलना] १ प्रतिकूल आचरण। २ प्रतिकूलता, विरोध (धर्मवि ५८)।

पडिकूलिय वि [प्रतिकूलित] प्रतिकूल किया हुआ (राज)।

पडिकूवग पुं [प्रतिकूपक] कूप के समीप का छोटा कूप (स १००)।

पडिकेसव पुं [प्रतिकेशव] वासुदेव का प्रतिपत्ती राजा, प्रतिवासुदेव (पउम २०, २०४)।

पडिकोस सक [प्रति + कुश] आक्रोश करना, कोसना, शाप या गाली देना। पडिकोसह (सुय २, ७, ६)।

पडिकोह पुं [प्रतिकोथ] गुस्ता (दस ६, ५८)।

पडिकक न [प्रत्येक] प्रत्येक, हरएक (आचा)।

पडिककंत वि [प्रतिकान्त] पीछे हटा हुआ, निवृत्त (उवा; पएह २, १; आ ४३; सं १०६)।

पडिककम अक [प्रति+कम्] निवृत्त होना, पीछे हटना। पडिककमइ (उव; महा)। पडिककमे (आ ३; ५; पच १२)। हेक. पडिककमिउं, पडिककमित्तए (धर्म २; कस; ठा २, १)। संकृ. पडिककमित्ता (आचा २, १५)। कृ. पडिककंतव्व, पडिककमित्तव्व (आवम; ओघ ८००)।

पडिकम पुं [प्रतिक्रम] देखो पडिकमण, 'गिहिपडिकममाइयाराणं' (पव—गाथा २)।

पडिककमण न [प्रतिक्रमण] १ निवृत्ति, व्यावर्तन। २ प्रमाद-वश शुभ योग से गिर कर अशुभ योग को प्राप्त करने के बाद फिर से शुभ योग को प्राप्त करना। ३ अशुभ व्यापार से निवृत्त होकर उत्तरोत्तर शुद्ध योग में वर्तन (पएह २, १; औप; वउ ५; पडि)। ४ मिथ्या-दुष्कृत-प्रदान, किए हुए पाप का परचात्ताप (ठा १०)। ५ जैन साधु और गृहस्थों का सुवह और शाम को करने का एक आवश्यक अनुष्ठान (आ ४८)।

पडिकमय वि [प्रतिक्रामक] प्रतिक्रमण करनेवाला, 'जीवो उ पडिकमयो असुहाणं पावकम्मजोगाणं' (आनि ४)।

पडिककमिउं देखो पडिकम। 'काम वि [काम] प्रतिक्रमण करने की इच्छावाला (गाया १, ५)।

पडिककय पुं [दे] प्रतिक्रिया, प्रतीकार (दे ६, १६)।

पडिककामणा व्ही [प्रतिक्रमणा] देखो पडिकमण (ओघ ३६ भा)।

पडिककूल देखो पडिकूल (हे २, ६७, पड्)।

पडिकख सक [प्रति + ईच्छ] १ प्रतीक्षा करना, वाट देखना, वाट जोहना। २ अक. स्थिति करना। पडिकखइ (पड्; महा)। वक्र. पडिकखंत (पउम ५, ७२)।

पडिकखअ वि [प्रतीक्षक] प्रतीक्षा करनेवाला, वाट जोहनेवाला (गा ५५७ अ)।

पडिकखंभ पुं [प्रतिस्तम्भ] अगंला, अरगला, आगल, अगरी, व्योङ्गा (सं ६, ३३)।

पडिकखण न [प्रतीक्षण] प्रतीक्षा, वाट, राह (दे १, ३४; कुमा)।

पडिकखर वि [दे] १ क्रूर, निर्दय (दे ६, २५)। २ प्रतिकूल (पड्)।

पडिकखल अक [प्रति + खल] १ हटना। २ गिरना। ३ रकना। ४ सक. रोकना। वक्र. पडिकखलंत (भवि)।

पडिकखलण न [प्रतिखलण] १ पतन। २ अवरोध (आवम)।

पडिकखलिअ वि [प्रतिखलित] १ परावृत्त, पीछे हटा हुआ (सं १, ७)। २ रका हुआ (सं १, ७; भवि)। देखो पडिखलिअ।



पडिक्खाविअ वि [प्रतीक्षित] ? स्थापित ।  
२ कृत; 'विरमालिन्न संसारे जेषु पडिक्खा-  
विआ समयसत्था' (कुमा) ।

पडिक्खिअ वि [प्रतीक्षित] जिसको प्रतीक्षा  
की गई हो वह (दे ८, १३) ।

पडिक्खित्त वि [परिक्षिप्त] विस्तारित  
(श्रंत ७) ।

पडिखंध न [दे] ? जल-बहन, जल भरने  
का इति आदि पात्र । २ जलवाह, मेघ, वादल  
(दे ६, २८) ।

पडिखंधी वी [दे] ऊपर देखो (दे ६, २८) ।

पडिखद्ध वि [दे] हत, मारा हुआ (?);  
'किमेइणा सुणहमाण पडिखद्धेण' (महा) ।

पडिखल देखो पडिक्खल (भवि) । कर्म.  
पडिखलियइ (कुप २०५) ।

पडिखलण देखो पडिक्खलण (वर्मवि ५६) ।

पडिखलिअ वि [प्रतिखलित] ? रका  
हुआ (भवि) । २ रोका हुआ; 'सहसा त्तो  
पडिखलिओ अंगरक्खेण' (सुपा ५२७) ।  
देखो पडिक्खलिअ ।

पडिखिज्ज अक [परि + खिट्] विन्न होना,  
क्लान्त होना । पडिखिज्जि (शौ) (नाट—  
मालती ३१) ।

पडिगमण न [प्रतिगमन] व्यावर्तन, पीछे  
लौटना (वव १०) ।

पडिगय पुं [प्रतिगज] प्रतिपत्नी हाथी (गडड) ।

पडिगय पुं [प्रतिगत] पीछे लौटा हुआ,  
वापस गया हुआ (विपा १, १; भग औप;  
महा; सुर १, १४६) ।

पडिगह देखो पडिग्गह (दे ४, ३१) ।

पडिगाह सक [ प्रति + ग्रह ] ग्रहण  
करना, स्वीकार करना । पडिगाहइ (भवि) ।  
पडिगाह, पडिगाहेहि (कम्प) । संकृ. पडिगा-  
हिया, पडिगाहित्ता, पडिगाहेत्ता (कम्प;  
आचा २, १, ३, ३) । हेक. पडिगाहित्तए  
(कम्प) ।

पडिगाहग वि [प्रतिग्राहक] ग्रहण करने  
वाला (णया १, १—पत्र ५३; उप पृ  
२६३) ।

पडिगाहिय वि [प्रतिगृहित] लिया हुआ,  
उपात्त (सुपा १४३) ।

पडिग्गह पुं [पतद्ग्रह, प्रतिग्रह] ? पात्र,  
भाजन (परह २, ५; औप; औप ३६; २५१;  
दे ५, ४८; कम्प) । २ कर्म प्रकृति-विशेष, वह  
प्रकृति जिसमें दूसरी प्रकृति का कर्म-दल  
परिणत होता है (कम्प) । °धारि वि  
[°धारिन्] पात्र रखनेवाला (कम्प) ।

पडिग्गहिअ वि [प्रतिग्रहिन्, पतद्ग्रहिन्]  
पात्रवाला; 'समणे भगवं महावीरे संबच्छरं  
साहियं मासं जाव चीवरधारी होत्वा,  
तेण परं अचेलए पाणिपडिग्गहिण' (कम्प) ।

पडिग्गहिद (शौ) वि [प्रतिगृहिन्, परि-  
गृहीत] स्वीकृत (नाट—मुच्छ ११०; रत्ना  
१२) ।

पडिग्गाह देखो पडिगाह । पडिग्गाहइ  
(उवा) । संकृ. पडिग्गाहेत्ता (उवा) । हेक.  
पडिग्गाहेत्तए (कस; औप) ।

पडिग्गाह सक [ प्रति + ग्राह्य ] ग्रहण  
करना । कृ. पडिग्गाहिदव्य (शौ) (नाट) ।

पडिग्गाहय वि [प्रतिग्राहक] प्रत्यादाता,  
वापस लेनेवाला (दे ७, ५६) ।

पडिग्गाय पुं [प्रतिघात] ? निरोध, अटकाने  
(दस ६, ५८) । २ विनारा (वर्मवि ५४) ।

पडिघाय पुं [प्रतिघात] ? नाश, विनाश ।  
२ निराकरण, निरसन; 'दुक्खपडिघायहेउं'  
(आचा; सुर ७, २३४) ।

पडिघायग वि [प्रतिघातक] प्रतिघात करने-  
वाला (उप २६४ टी) ।

पडिघोलि वि [प्रतिघूर्णित] डोलनेवाला,  
हिलनेवाला (से ६, ५१) ।

पडिचंत पुं [प्रतिचन्द्र] द्वितीय चन्द्र, जो  
उत्पात आदि का सूचक है (अणु) ।

पडिचक न [प्रतिचक्र] अरुण चक्र—समु-  
दाय (राज) । देखो पडियक = प्रतिचक्र ।

पडिचर देखो पडिअर = प्रति = चर । संकृ.  
पडिचरिय (दस ६, ३) । कृ. 'संजमो  
पडिचरियव्वो' (आव ४) ।

पडिचर सक [ प्रति + चर ] परिभ्रमण  
करना । पडिचरइ (सुज्ज १, ३) ।

पडिचरग पुं [प्रतिचरक] जासूस, चर पुरुष  
(वृह १) ।

पडिचरणा देखो पडिअरणा (राज) ।

पडिचार पुं [प्रतिचार] कला-विशेष—  
ग्रह आदि की गति का परिज्ञान । २ रोगी  
की सेवा-शुश्रूषा का ज्ञान (जं २; औप; स  
६०३) ।

पडिचारय पुं वी [प्रतिचारक] नौकर,  
कर्मकर । वी. °रिया (सुपा ३०४) ।

पडिचोइज्जमाण देखो परिचोय ।

पडिचोइय वि [प्रतिचोदित] ? प्रेरित (उप  
पृ ३६४) । २ प्रतिनयित, जिसको उत्तर  
दिया गया हो वह (पउम ४४, ४६) ।

पडिचोएत्तु वि [प्रतिचोदयित्] प्रेरक (ठा  
३, ३) ।

पडिचोय सक [ प्रति + चोदय ] प्रेरणा  
करना । पडिचोएति (भग १५) । कवक.  
पडिचोइज्जमाण (भग १५—पत्र ६७६) ।

पडिचोयणा वी [प्रतिचोदना] प्रेरणा  
(ठा ३, ३; भग १५—पत्र ६७६) ।

पडिचोयणा वी [प्रतिचोदना] निमंत्तना,  
निष्ठुरता से प्रेरणा (विचार २३८) ।

पडिचचारग देखो पडिचारय (उप ६८६  
टी) ।

पडिच्छ देखो पडिक्ख । वक. पडिच्छंत-  
'अहित्तेयदिणं पडिच्छमाणो चिट्ठइ' (उव;  
स १२५; महा) । कृ. पडिच्छियव्व  
(महा) ।

पडिच्छ सक [ प्रति + छ्प् ] ग्रहण करना ।  
पडिच्छइ, पडिच्छति (कम्प; सुपा ३६) ।  
वक. पडिच्छमाण, पडिच्छेमाण (औप;  
कम्प; णया १, १) । संकृ. पडिच्छइत्ता,  
पडिच्छिअ, पडिच्छिउं, पडिच्छिऊण  
(कम्प; अग्नि १८५; सुपा ८७; निरु २०) ।  
हेक. पडिच्छिउं (सुपा ७२) । कृ. पडि-  
च्छियव्व (सुपा १२५; सुर ४, १८६) ।  
प्रयो. कर्म. पडिच्छावीअदि (शौ) (पि  
५५२; नाट) । वक. पडिच्छावेमाण  
(कम्प) ।

पडिच्छंद पुं न [प्रतिच्छन्द] ? मूर्ति, प्रति-  
विम्ब (उप ७२८ टी; स १६१; ६०६) ।  
२ तुल्य, समान (से ८, ४६) । °ीकय वि  
[°ीकृत] समान किया हुआ (कुमा) ।

पडिच्छंद पुं [दे] मुख, घृह (दे ६, २४) ।  
 पडिच्छग वि [प्रत्येषक] ग्रहण करनेवाला (निचू ११) ।  
 पडिच्छण न [प्रतीक्षण] प्रतीक्षा, वाट, राह (उप ३७८) ।  
 पडिच्छण न [प्रत्येषण] १ ग्रहण, आदान, लेना । २ उत्सारण, विनिवारण; 'कुलिसपडिच्छणजोग्गा पच्छा कडया महिहराय' (गउड) ।  
 पडिच्छणा [प्रत्येषणा] ग्रहण, आदान (निचू १६) ।  
 पडिच्छण्ण } वि [प्रतिच्छन्न] आच्छादित,  
 पडिच्छन्न } दका हुमा (णया १, १—पत्र १३; कप्प) ।  
 पडिच्छय पुं [दे] समय, काल (दे ६, १६) ।  
 पडिच्छय देवो पडिच्छग (औप) ।  
 पडिच्छयण न [प्रतिच्छदन] देवो पडिच्छायण (राज) ।  
 पडिच्छा.त्ती [प्रतीच्छा] ग्रहण, अंगोकार (द्र ३३, नण) ।  
 पडिच्छायण न [प्रतिच्छादन] आच्छादन-वन्न, प्रच्छादन-पट; 'हिरिपडिच्छायणं च नो संचाएमि अहियाचित्तए' (आचा; णया १, १—पत्र १५ टो) ।  
 पडिच्छायण न [प्रतिच्छादन] आच्छादन, आवरण (सुज २०) ।  
 पडिच्छाया वी [प्रतिच्छाया] प्रतिविम्ब, परछाई (उप ५२३ टो) ।  
 पडिच्छावेमाण देवो पडिच्छ = प्रति + इप् ।  
 पडिच्छअ वि [प्रतीष्ट, प्रतीप्सत्] १ गृहीत, स्वीकृत (स ७, ५४; उवा; औप; सुपा ८४) । २ विशेष रूप से वाढित्त (सग) ।  
 पडिच्छअ देवो पडिच्छ = प्रति + इप् ।  
 पडिच्छआ वी [दे] १ प्रतिहारी । २ चिर-काल से व्याप्य हुई नैस (दे ६, २१) ।  
 पडिच्छइं  
 पडिच्छऊण } देवो पडिच्छ = प्रति + इप् ।  
 पडिच्छयच्च }  
 पडिच्छर वि [प्रतीक्षित्] प्रतीक्षा करने-वाला, वाट देखनेवाला (वज्जा ३६) ।  
 पडिच्छय वि [प्रतीक्षक] अपने दीक्षा-गुरु की आज्ञा लेकर दूसरे गच्छ के आचार्य के पास उनकी अनुमति से शास्त्र पढ़नेवाला मुनि (संदि ५४) ।

पडिच्छर वि [दे] सहय, समान (हे २, १७४) ।  
 पडिच्छंद देवो पडिच्छंद; 'चडियं निपयडिच्छंदं' (उप ७२८ टो) ।  
 पडिच्छा वी [प्रतीक्षा] प्रतीक्षण, वाट (ओप १७५) ।  
 पडिच्छाया देवो पडिच्छाया (चइय ७५) ।  
 पडिजंप संक [प्रति + जल्प] उत्तर देना । पडिजंपइ (भवि) ।  
 पडिजग देवो पडिजागर = प्रति + जागृ । पडिजगइ (वृह ३) ।  
 पडिजगय वि [प्रविजागरक] सेवा-शुभ्रूपा करनेवाला (उप ७६८ टो) ।  
 पडिजगिय वि [प्रतिजागृत] जिसकी सेवा-शुभ्रूपा की गई हो वह (सुर ११, २४) ।  
 पडिजागर संक [प्रति + जागृ] १ सेवा-शुभ्रूपा करना, निर्वाह करना, निभाना । २ गवेपणा करना । पडिजागरंति (कप्प) । वक्र. पडिजागरमाण (विपा १, १; उवा; महा) ।  
 पडिजागर पुं [प्रतिजागर] १ सेवा-शुभ्रूपा । २ चिकित्सा; 'भणियो सिद्धो आणंसु विजं पडिजागरहाए' (सुपा ५७६) ।  
 पडिजागरण न [प्रतिजागरण] ऊपर देवो (वव ६) ।  
 पडिजागिरय देवो पडिजगिय (दे १, ४१) ।  
 पडिजायणा वी [प्रतिजायतना] प्रतिविम्ब, प्रतिमा, परछाई (चइय ७५) ।  
 पडिजुवइ वी [प्रतियुवति] १ स्व-समान अन्य युवति । २ सपत्नी (कुप्र ४) ।  
 पडिजोग पुं [प्रतियोग] कामंण आदि योग का प्रतिघातक योग, चूर्ण-विशेष (सुर ८, २०४) ।  
 पडिट्ट वि [पटिष्ट] अत्यन्त निपुण, बहुत चतुर (सुर १, १३५; १३, ६६) ।  
 पडिट्टविअ वि [परिस्थापित] संस्थापित (से ५, ५२) ।  
 पडिट्टविअ वि [प्रतिष्ठापित] जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो वह (अच्छु ६४) ।  
 पडिट्टा देवो पडिट्टा (नाट—मालती ७०) ।  
 पडिट्टाव संक [प्रति + स्थापय] प्रतिष्ठित करना । पडिट्टावेहि (पि २२०; ५५१) ।

पडिट्टावअ देवो पडिट्टावय (नाट—वेणी ११२) ।  
 पडिट्टाविद (सौ) देवो पडिट्टाविय (अभि १८७) ।  
 पडिट्टिअ देवो पडिट्टिय (पड; पि २२०) ।  
 पडिट्टाण न [प्रतिस्थान] हर जगह (धर्मवि ४) ।  
 पडिण देवो पडिण (पि ८२; ६६) ।  
 पडिणव वि [प्रतिनव] नया, नूतन; 'तुरय-पडिणवबुखाद एणरंतरखंडिदं' (विक्र २६) ।  
 पडिणिअंसण न [दे] रात में पहनने का वस्त्र (दे ६, ३६) ।  
 पडिणिअत्त अक [प्रतिनि + वृत्] पीछे लौटना, पीछे वापस जाना । पडिणियत्तई (औप) । वक्र. पडिणिअत्तंत, पडिणिअत्त-माण (से १३, ७५; नाट—मालती २६) । संक. पडिणियत्तित्ता (औप) ।  
 पडिणिअत्त } वि [प्रतिनिवृत्त] पीछे लौटा  
 पडिणिउत्त } हुमा (गा ६८ अ; विपा १, ५; उवा; से १, २६; अभि १२४) ।  
 पडिणिकास वि [प्रतिनिकाश] समान, तुल्य (राय ६७) ।  
 पडिणिक्खम अक [प्रतिनिर + क्रम्] बाहर निकलना । पडिणिक्खमइ (उवा) । संक. पडिणिक्खमित्ता (उवा) ।  
 पडिणिग्गच्छ अक [प्रतिनिर + गम्] बाहर निकलना । पडिणिग्गच्छइ (उवा) । संक. पडिणिग्गच्छत्ता (उवा) ।  
 पडिणिजाय संक [प्रतिनिर + यापय] अर्पण करना । पडिणिज्जाएमि (णया १, ७—पत्र ११८) ।  
 पडिणिभ वि [प्रतिनिभ] १ सहय, तुल्य, बराबर । २ हेतु-विशेष, वादी की प्रतिज्ञा का खंडन करने के लिए प्रतिवादी की तरफ से प्रयुक्त समान हेतु—युक्ति (ठा ४, ३) ।  
 पडिणियत्त देवो पडिणिअत्त = प्रतिनि + वृत् । वक्र. पडिणिवत्तमाण (नाट, रत्ना ५४) ।  
 पडिणिवत्त देवो पडिणिअत्त = प्रतिनिवृत्त (काल) ।  
 पडिणिविट्ट वि [प्रतिनिविट्ट] द्विष्ट, द्वेष-युक्त (परह १, १—पत्र ७) ।

पडिणियुत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनि + वृत् । वृत्. पडिणियुत्तमाण ( वेणी २३ ) ।  
 पडिणियुत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनिवृत्त (अभि ११८) ।  
 पडिणिवेस देखो पडिनिवेस (राज) ।  
 पडिणिव्यत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनि + वृत् । वृत्. पडिणिव्यत्तंत (हेका ३३२) ।  
 पडिणिसंत वि [प्रतिनिश्रान्त] १ विश्रान्त । २ निलोन (शाया १, ४—पत्र ६७) ।  
 पडिणांय न [प्रत्यनीक] १ प्रतिचैन्य, प्रति-पक्ष की सेना (भग ८, ८) । २ वि. प्रतिकूल, विपत्नी, विपरीत आचरण करनेवाला (भग ८, ८; शाया १, २; सम्म १६३; औप; शोध ६३; द्र ३३) ।  
 पडिण्णत्त वि [प्रतिज्ञप्त] उक्त, कथित; 'जस्स एं भिन्नवुत्त अयं पण्णं; अहं च खलु पडिण्ण (त्त) त्तो अपडिण्ण (त्त) त्तेहि' (आचा १, ८, ५, ४) ।  
 पडिण्णा देखो पड्ण्णा (स्वप्न २०७; सुअ १, २, २, २०) ।  
 पडिण्णाद् देखो पड्ण्णाद् (पि २७६; ५६५, नाट—मालवि १२) ।  
 पडितंत वि [प्रतितन्त्र] स्व-शास्त्र ही में प्रसिद्ध ग्रंथ, 'जो खलु सतंतसिद्धो न य पर-तंतमु सो उ पडितंतो' (वृह १) ।  
 पडितणु वी [प्रतितनु] प्रतिमा, प्रतिविम्ब (वेइय ७५) ।  
 पडितप्प सक [प्रतितर्पय] भोजनादि से तृप्त करना । पडितप्पह (शोध ५३५) ।  
 पडितप्प अक [प्रति + तप्] १ चिन्ता करना । २ खबर रखना । पडितप्पई (उत्त १७, ५) ।  
 पडितपिपय वि [प्रतितर्पित] भोजन आदि से तृप्त किया हुआ (वव १) ।  
 पडितुट्टु देखो परितुट्टु (नाट—मृच्छ ८१) ।  
 पडितुल्ल वि [प्रतितुल्य] समान, सदृश (पटम ५, १४६) ।  
 पडित्त देखो पडित्त = प्रदीप्त (से १, ५; ५, ८७) ।  
 पडित्ताण देखो परित्ताण (नाट—शकु १४) ।

पडित्थिर वि [दे] समान, सदृश (दे ३, २०) ।  
 पडित्थिर वि [परिस्थिर] स्थिर, 'गुप्पंत-पडित्थिरं' (से २, ४) ।  
 पडित्थद्ध वि [प्रतिस्तद्ध] गवित (उत्त १२, ५) ।  
 पडिट्ठं पुं [प्रतिदण्ड] मुख्य दण्ड के समान दूसरा दण्ड, 'सपडिट्ठं धरिज्जमाणेणं आयवत्तेणं विरायंते (औप) ।  
 पडिट्ठं सक [प्रति + दर्शय] दिखलाना । पडिट्ठंसेइ (भग; उवा) । संक. पडिट्ठंसेत्ता (उवा) ।  
 पडिदा सक [प्रति + दा] पीछे देना, दान का बदला देना । पडिदेइ (विसे ३२४१) । क. पडिदायव्य (कस) ।  
 पडिदाण न [प्रतिदान] दान के बदले में दान; 'दाणपडिदाणवचियं' (उप ५६७ टी) ।  
 पडिदासिया वी [प्रतिदासिका] दासी (दत्त ३, १ टी) ।  
 पडिदिसा } वी [प्रतिदिश] विदिशा,  
 पडिदिसि } विदिक् (राज; पि ४१३) ।  
 पडिटुगंछि वि [प्रतिजुगुप्सिन्] १ निन्दा करनेवाला । २ परिहार करनेवाला; 'सीओ-दगपडिटुगंछियो' (सुअ १, २, २ २०) ।  
 पडिटुवार न [प्रतिद्वार] १ हर एक द्वार (परह १, ३) । २ छोटा द्वार (कप्प; परण २) ।  
 पडिधि देखो परिहि; 'सूरियपडिधीतो वहित्ता' (सूज्ज ६) ।  
 पडिनमुक्कार पुं [प्रतिनमस्कार] नमस्कार के बदले में नमस्कार—प्रणाम (रंभा) ।  
 पडिनिकखंत वि [प्रतिनिष्कान्त] बाहर निकला हुआ (शाया १, १३) ।  
 पडिनिकखंम देखो पडिणिकखंम । पडिनि-क्खंमइ (कप्प) । संक. पडिनिकखंमित्ता; (कप्प; भग) ।  
 पडिनिग्गच्छ देखो पडिणिग्गच्छ । पडिनि-ग्गच्छइ (उवा) । पडिनिग्गच्छंति (भग) । संक. पडिनिग्गच्छत्ता (उवा; पि ५८२) ।  
 पडिनिभ देखो पडिणिभ (दसनि १) ।

पडिनियत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनि + वृत् । पडिनियत्तइ (महा) । हेक. पडिनियत्तए (कप्प) ।  
 पडिनियत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनिवृत्त (शाया १, १४; महा) ।  
 पडिनियत्ति वी [प्रतिनिवृत्ति] वापस लौटना प्रत्यावरान (मोह ६३) ।  
 पडिनिवेस पुं [प्रतिनिवेश] १ आग्रह, क्वाग्रह, दुराग्रह, अनुचित हठ (पच्च ६) । २ गाढ़ अनुशय, पश्चात्ताप (विसे २२६६) ।  
 पडिनिसिद्ध वि [प्रतिनिपिद्ध] निवारित, हटाया हुआ (उप पृ ३३३) ।  
 पडिन्नत्त देखो पडिण्णत्त (आचा १, ८, ५, ४) ।  
 पडिन्नय सक [प्रति + ज्ञपय] कहना । संक. पडिन्नयित्ता (कप्प) ।  
 पडिन्नय सक [प्रति + ज्ञापय] १ प्रतिज्ञा कराना । २ नियम दिलाना । पडिन्नविजा, पडिन्नवेज्जा (दसचू २, ८) ।  
 पडिन्ना देखो पडिण्णा (आचा) ।  
 पडिपंथ पुं [प्रतिपथ] १ उलटा मार्ग, विपरीत मार्ग । २ प्रतिकूलता (सुअ १, ३, १, ६) ।  
 पडिपंथि वि [प्रतिपथिन्] प्रतिकूल, विरोधी; 'अप्पेणे पडिभासंति पडिपंथियमागता' (सुअ १, ३, १, ६) ।  
 पडिपक्ख देखो पडिपक्ख (शोध १३) ।  
 पडिपडिय वि [प्रतिपडित] फिर से गिरा हुआ, 'सत्थो सिवत्थियो चालियावि पडिपडिया भवारण्णे' (सार्व ६४) ।  
 पडिपत्ति } देखो पडिपत्ति (नाट—चैत  
 पडिपदि } ३४; संनि ६) ।  
 पडिपह पुं [प्रतिपथ] १ जन्मार्ग, विपरीत रास्ता (स १४७; पि ३६६ ए) । २ न. अभिमुख. संमुख (सुअ २, २, ३१ टी) ।  
 पडिपहिअ वि [प्रतिपथिक] संमुख आने-वाला (सुअ २, २, २८) ।  
 पडिपाअ सक [प्रति + पादय] प्रतिपादन करना, कथन करना । क. पडिपाअणीअ (नाट—शकु ६५) ।  
 पडिपाय पुं [प्रतिपाद] मुख्य पाद को सहायता पहुँचानेवाला पाद (राय) ।

पडिपाहुड न [प्रतिप्राभृत] बदले की भेंट (सुपा १४५) ।

पडिपिंडिअ वि [दे] प्रवृद्ध; बढ़ा हुआ (दे ६, ३४) ।

पडिपिल्ल सक [प्रति + क्षिप्, प्रतिप्र + ईरय] प्रेरणा करना । पडिपिल्लइ (भवि) । पडिपिल्लण न [प्रतिप्रेरण] १ प्रेरणा (सुर १५; १४१) । २ ढक्कन, पिधान । ३ वि. प्रेरणा करनेवाला; 'दीवसिहापडिपिल्लणमल्ले मिल्लति नीसत्ते' (कुप्र १३१) ।

पडिपिहा देखो पडिपेहा । संक. पडिपिहिच्चा (पि ५८२) ।

पडिपीलण न [प्रतिपीडन] विशेष पीडन, अधिक दबाव (गउड) ।

पडिपुच्छ सक [प्रति + प्रच्छ] १ पृच्छा करना, पूछना । २ फिर से पूछना । ३ प्रश्न का जवाब देना । पडिपुच्छइ (उव) । वक. पडिपुच्छमाण (कप्प) । क. पडिपुच्छ-गिज्ज, पडिपुच्छणीय (उवा; एया १, १; राय) ।

पडिपुच्छण न [प्रतिप्रच्छन] नीचे देखो (भग; उवा) ।

पडिपुच्छणया } छो [प्रतिप्रच्छना] १  
पडिपुच्छणा } पूछना, पृच्छा । २ फिर से पृच्छा (उत्त २६, २०; श्रोप) । ३ उत्तर, प्रश्न का जवाब (वृह ४; उप पृ ३६८) ।

पडिपुच्छणिज्ज } देखो पडिपुच्छ ।  
पडिपुच्छणीय }

पडिपुच्छा छो [प्रतिपुच्छा] देखो पडिपुच्छणा (पंचा २; वव २; वृह १) ।

पडिपुच्छिअ वि [प्रतिपृष्ट] जिससे प्रश्न किया गया हो वह (गा २८६) ।

पडिपुज्जिय वि [प्रतिपूजित] पूजित, अर्चित; 'वंदणवरकणगल्लसमुविणिम्मियपडिपुंजि (१ पुंजि, पूइ) यत्तरसपठमसोहंतदारभाए' (एया १, १—पत्र १२) ।

पडिपुण्ण देखो पडिपुन्न (उवा; पि २१८) ।

पडिपुत्त पुं. [प्रतिपुत्र] प्रपुत्र, पुत्र का पुत्र, पोता; 'अंकनित्तियनियनियपुत्तयपडिपुत्तनत्त-पुत्तीय' (सुपा ६) । देखो पडिपोत्तय ।

पडिपुन्न वि [प्रतिपूर्ण] परिपूर्ण, संपूर्ण (एया १, १; सुर ३, १८; ११४) ।

पडिपूइय देखो पडिपुज्जिय (राज) ।

पडिपूयग } वि [प्रतिपूजक] पूजा करने-  
पडिपूयय } वाला (राज; सम ५१) ।

पडिपूयय वि [प्रतिपूजक] प्रत्युपकार-कर्ता (उत्त १७, ५) ।

पडिपूरिय वि [प्रतिपूरित] पूर्ण किया हुआ (पउम १००, ५०; ११५, ७) ।

पडिपेहण देखो पडिपिहण (गउड; से ६, ३२) ।

पडिपेहण न [प्रतिप्रेरण] देखो पडिपिहण (से २, २४) ।

पडिपेहिय वि [प्रतिप्रेरित] प्रेरित, जिसको, प्रेरणा की गई हो वह (सुर १५, १८०; महा) ।

पडिपेहा सक [प्रतिपि + धा] ढकना, आच्छादन करना । संक. पडिपेहिच्चा (सूत्र २, २, ५१) ।

पडिपोत्तय पुं [प्रतिपुत्रक] नप्ता, कन्या का पुत्र, लड़की का लड़का, नाती (सुपा १६२) । देखो पडिपुत्तय ।

पडिप्पह देखो पडिपह (उप ७२८ टी) ।

पडिप्फद्धि वि [प्रतिस्पर्धिन्] स्वर्धा करने-वाला (हे १, ४४; २, ५३; प्राप्र; संक्षि १६) ।

पडिप्फलणा छो [प्रतिफलना] १ स्वलना । २ संक्रमण; 'पडिसहपडिप्फलणावजिरनीसे-समुरधंटे' (सुपा ८७) ।

पडिप्फलिअ } वि [प्रतिफलित] १ प्रति-  
पडिफलिअ } विन्वित, संक्रान्त (से १५, ३१; दे १, २७) । २ स्वलित (पाप्र) ।

पडिवंध सक [प्रति + वन्ध] रोकना, अट-काना । पडिवंधइ (पि ५१३) । क. पडि-वंधेयव्व (वसु) ।

पडिवंध सक [प्रति + वन्ध] १ वेष्टन करना । २ सेकना । पडिवंधइ, पडिवंधंति (सूत्र १, ३, २, १०) ।

पडिवंध पुं [प्रतिवन्ध] व्याप्त, नियम (धमंसं १११) ।

पडिवंध पुं [प्रतिवन्ध] १ रूकावट (उवा; कप्प) । २ विघ्न, अन्तराय (उप ८८७) । ३ अत्यादर, बहुमान (उप ७७६; उवर १४६) । ४ स्नेह, प्रीति, राग (ठा ६; पंचा १७) । ५ आसक्ति, अभिष्वंग (एया १, ५; कप्प) । ६ वेष्टन (सूत्र १, ३, २) ।

पडिवंधअ } वि [प्रतिवन्धक] प्रतिवन्ध  
पडिवंधग } करनेवाला, रोकनेवाला (अभि २५३; उप ६४५) ।

पडिवंधण न [प्रतिवन्धन] प्रतिवन्ध, रूकावट (पि २१८) ।

पडिवंधेयव्व देखो पडिवंध = प्रति + वन्ध ।

पडिवद्ध वि [प्रतिवद्ध] १ रोका हुआ, संरुद्ध; 'वायुरिव अप्पडिवद्धे' (कप्प; परह १, ३) । २ उपजनित, उत्पादित (गउड १८२) । ३ संसक्त, संबद्ध, संलग्न; 'सरित्राए तरंगियपंकवडलपडिवद्धवालुयामसिणा' (गउड; कुप्र ११५; उवा) ।

४ सामने बैचा हुआ; 'पडिवद्धं नवर तुमे नरिदचकं पयाववियडंपि' (गउड) । ५ व्यव-स्थित (पंचा १३) । ६ वेष्टित (गउड) । ७ समीप में स्थित; 'तं नेव य सागरियं जत्त अदूरे स पडिवद्धो' (वृह १) ।

पडिवद्ध वि [प्रतिवद्ध] नियत, व्याप्त (पंचा ७, २) ।

पडिवाह सक [प्रति + वाध्] रोकना । हेह. पडिवाहिट्टुं (शौ) (नाट—महावी ६६) ।

पडिवाहिर वि [प्रतिवाह्य] अनधिकारी, श्रोग्य (सम ५०) ।

पडिविंय न [प्रतिविम्ब] १ परछाहीं, प्रति-च्छाया (सुपा २६६) । २ प्रतिमा, प्रतिमूर्ति (पाप्र; प्रामा) ।

पडिविंविअ वि [प्रतिविम्बित] जिसका प्रतिविम्ब पड़ा हो वह (कुमा) ।

पडिवुज्जक अक [प्रति + वुध्] १ बोध पाना । २ जागृत होना । पडिवुज्जइ (उवा) । वक. पडिवुज्जंते, पडिवुज्जमाण (कप्प) ।

पडिवुज्जकणया } छो [प्रतिबोधना] १ बोध,  
पडिवुज्जकणा } समर्थ । २ जागृति (स १५६; श्रोप) ।

पडिवुद्ध वि [प्रतिवुद्ध] १ बोध-प्राप्त (प्रासू १३५; उव) । २ जागृत (एया १, १) । ३ न. प्रतिबोध (आचा) । ४ पुं. एक राजा का नाम (एया १, ८) ।

पडिवूहणया छो [प्रतिवूहणा] उपचय, पुष्टि (सूत्र २, २, ८) ।

पडिवोध देखो पडिवोह = प्रतिबोध (नाट—मालती ५६) ।

पडवोधिअ देखो पडिवोधिअ (अभि ५६) ।  
 पडिवोह सक [ प्रति + वोधय् ] १ जगाना ।  
 २ वोध देना, समझाना, ज्ञान प्राप्त कराना ।  
 पडिवोहेइ (कृष्ण; महा) । कवकू. पडि-  
 वोहिउजंत (अभि ५६) । संकू. पडिवोहिउं  
 (नाट—मालती १३६) । हेकू. पडिवोहिउं  
 (महा) । कू. पडिवोहियव्व (स ७०७) ।  
 पडिवोह पुं [ प्रतिवोध् ] १ वोध, समझ ।  
 २ जागृति; जागरण (गउड; पि १७१) ।  
 पडिवोहग वि [ प्रतिवोधक ] १ वोध देने-  
 वाला । २ जगानेवाला (विसे २४७ वे ।  
 पडिवोहण न [ प्रतिवोधन ] देखो पडि-  
 वाह = प्रतिवोध (काल; स ७०८) ।  
 पडिवोहि वि [ प्रतिवोधिन् ] प्रतिवोध प्राप्त  
 करनेवाला (आचा २, ३, १, ८) ।  
 पडिवोहिय वि [ प्रतिवोधित ] जिसको प्रति-  
 वोध किया गया हो वह (राया १, १;  
 काल) ।  
 पडिभंग पुं [ प्रतिभंग ] भंग, विनाश (से ५,  
 १६) ।  
 पडिभंज अक [ प्रति + भञ् ] भांगना,  
 टूटना । हेकू. पडिभंजिउं (वव ४) ।  
 पडिभंड न [ प्रतिभाण्ड ] एक वस्तु को  
 वेचकर उसके बदले में खरीदी जाती चीज  
 (स २०५; सुर ६, १५८) ।  
 पडिभंस सक [ प्रति + भंशय् ] भ्रष्ट करना,  
 च्युत करना; 'पंयाओ य पडिभंसइ' (स ३६३) ।  
 पडिभग्ग वि [ प्रतिभग्ग ] भागा हुआ,  
 पलायित (ओव ५३३) ।  
 पडिभड पुं [ प्रतिभट ] प्रतिपत्नी योद्धा (से  
 १३, ७२; आरा ५६; भवि) ।  
 पडिभण सक [ प्रति + भण् ] उत्तर देना,  
 जवाब देना । पडिभणइ (महा; उवा; चुपा  
 २१५), पडिभणामि (महानि ४) ।  
 पडिभणिय वि [ प्रतिभणित् ] प्रत्युत्तरित,  
 जिसका उत्तर दिया गया हो वह (महा; चुपा  
 ६०) ।  
 पडिभणिय वि [ प्रतिभणित् ] १ निराकृत  
 (धर्मसं ६५०) । २ न. प्रत्युत्तर, निराकरण  
 (धर्मसं ६१) ।  
 पडिभम सक [ प्रति, परि + भ्रम् ] धूमना,  
 पर्यटन करना । संकू. 'कत्यइ कहुप्राविय गयह

पति पडिभमिय सुहवसोसई दलंति' (भवि) ।  
 पडिभमिय वि [ प्रतिभ्रान्त, परिभ्रान्त ]  
 धूमा हुआ (भवि) ।  
 पडिभय न [ प्रतिभय ] भय, डर (पउम ७३,  
 १२) ।  
 पडिभा अक [ प्रतिभा ] मालूम होना । पडि-  
 भादि (शौ) (नाट—रत्ना ३) ।  
 पडिभाग पुं [ प्रतिभाग ] १ अंश, भाग  
 (भन २५, ७) । २ प्रतिविम्ब (राज) ।  
 पडिभास अक [ प्रति + भास् ] मालूम  
 होना । पडिभासदि (शौ) (नाट—मृच्छ  
 १४१) ।  
 पडिभास सक [ प्रति + भाष् ] १ उत्तर  
 देना । २ बोलना, कहना; 'अण्ये पडिभा-  
 संति' (सूय १, ३, १, ६) ।  
 पडिभिण वि [ प्रतिभिन्न ] संबद्ध, संलग्न  
 (से ४, ५) ।  
 पडिभिन्न वि [ प्रतिभिन्न ] भेद-प्राप्त  
 (पव—गाथा १६; चेइय ६४२) ।  
 पडिभुअंग पुं [ प्रतिभुजङ्ग ] प्रतिपत्नी  
 भुजंग—वेर्या-लंपट (कपूर २७) ।  
 पडिभू पुं [ प्रतिभू ] जामिनदार, जमानत  
 करनेवाला, मनीतिया (नाट—चैत ७५) ।  
 पडिभेअ पुं [ दे. प्रतिभेद ] उपालम्भ, निदा;  
 'पडिभेओ पचारण' (पात्र) ।  
 पडिभोइ वि [ प्रतिभोगिन् ] परिभोग करने-  
 वाला, 'अकालपडिभोइण' (आचा २, ३,  
 १, ८; पि ४०५) ।  
 पडिम वि [ प्रतिम ] समान, तुल्य (मोह  
 ३५) ।  
 पडिमं देखो पडिमा । °ट्टाइ वि [ °स्थायिन् ]  
 १ कायोत्सर्ग में रहनेवाला । २ नियम-विशेष  
 में स्थित (परह २, १—पत्र १००, ठा ५,  
 १—पत्र २६६) ।  
 पडिमंत सक [ प्रति + मन्त्रय् ] उत्तर  
 देना । पडिमंतेइ (उत्त १८, ६) ।  
 पडिमल्ल पुं [ प्रतिमल्ल ] प्रतिपत्नी मल्ल  
 (भवि) ।  
 पडिमा बी [ प्रतिमा ] १ मूर्ति, प्रतिविम्ब;  
 'जिणपडिमादंसणेण पडिमुद्धं' (दसनि १;  
 पात्र; गा १; ११४) । २ कायोत्सर्ग । ३  
 जैन-शास्त्रोक्त नियम-विशेष (परण २, १;

सम १६; ठा २, ३; ५, १) । °गिह न  
 [ °गृह ] मन्दिर (निचू १२) । देखो पडिमं ।  
 पडिमाण न [ प्रतिमान ] जिससे सुवर्ण आदि  
 का तौल किया जाता है वह रत्ती, मासा  
 आदि परिमाण (अणु) ।  
 पडिमाण न [ प्रतिमान ] प्रतिमा, प्रतिविम्ब  
 (चेइय ७५) ।  
 पडिमि २ सक [ प्रति + मा ] १ तौल  
 पडिमिग ) करना, माप करना । २ गिनती  
 करना । कर्म. पडिमिणजइ (अणु) । कवकू.  
 पडिमिज्जमाण (राज) ।  
 पडिमुंच सक [ प्रति + मुच् ] छोड़ना ।  
 हेकू. पडिमुंचिउं (से १४, २) ।  
 पडिमुंडणा बी [ प्रतिमुण्डना ] निपेव,  
 निवारण (वृह १) ।  
 पडिमुक्क वि [ प्रतिमुक्क ] छोड़ा हुआ (से ३,  
 १२) ।  
 पडिमोअणा बी [ प्रतिमोचना ] छुटकारा  
 (से १, ४६) ।  
 पडिमोक्खण न [ प्रतिमोचन ] छुटकारा (स  
 ४१) ।  
 पडिमोयग वि [ प्रतिमोचक ] छुटकारा करने-  
 वाला (राज) ।  
 पडिमोयण देखो पडिमोक्खण (श्रीप) ।  
 पडियक देखो पडिक (आचा) ।  
 पडियक न [ प्रतिचक्र ] युद्धकला-विशेष,  
 'तेण पुत्तो विच निप्फाइत्तो ईसत्ये पडियके  
 जन्तुमुक्के य अन्नासुवि कलासु' (महा) ।  
 पडियग्गण न [ प्रतिजागरण ] सन्हाल,  
 खबर (धर्मसं १०१३) ।  
 पडियच्च देखो पत्तिअ = प्रति + इ ।  
 पडियरण न [ प्रतिकरण ] प्रतीकार, इलाज  
 (पिंड ३६६) ।  
 पडियरिअ वि [ प्रतिचरित ] सेवित, सेवा  
 किया हुआ (मोह १०५) ।  
 पडिया बी [ प्रतिजा ] १ उद्देश्य, 'पिंडवाय-  
 पडियाए' (कस; आचा) । २ अभिप्राय (ठा ५,  
 २—पत्र ३१४) ।  
 पडिया बी [ पटिका ] वक्र-विशेष,  
 'चुपमाणं य चुनुत्ता,  
 वहुक्खा तह य कोमला सिसिरे ।

कतो पुएणेहि विणा,

वेसा पडियव्व संपडइ,

(वजा ११६) ।

पडियाइक्ख सक [प्रत्या + ख्या] त्याग करना । पडियाइक्खे (पि १६६) ।

पडियाइक्खिय वि [प्रत्याख्यात] व्यक्त, परित्यक्त; छोड़ा हुआ; (ठा २, १; भग; उवा कस; विपा १, १; श्रौप) ।

पडियाणय न [दे. पर्याणक] पर्याण के नीचे दिया जाता चर्म आदि का एक उपकरण (साया १, १७—पत्र २३०) ।

पडियाणंद पुं [प्रत्यानन्द] विरोध आनन्द, प्रभूत आह्लाद, बहुत आनन्द (श्रौप) ।

पडियाणय न [दे. पडतानक, पर्याणक] पर्याण के नीचे रखा जाता वस्त्र आदि का एक घुड़सवारी का उपकरण (साया १, १७—पत्र २३२ टी) ।

पडियारणा स्त्री [प्रतिवारणा] निषेध (पंचा १७, ३४) ।

पडियासूर अक [दे] चिड़ना, गुस्सा होना । कृ. 'पडियासुरेयव्वं न कयाइवि पाए-चाएवि' (आक २५, १४) ।

पडिर वि [पतिवृ] गिरनेवाला (कुमा) ।

पडिरअ देखो पडिरव (गा ५५ अ; से ७, १६) ।

पडिरंजिअ वि [दे] भग्न, टूटा हुआ (दे ६, ३२) ।

पडिरक्खिय वि [प्रतिरक्षित] जिसकी रक्षा की गई हो वह (भवि) ।

पडिरव पुं [प्रतिरव] प्रतिव्वनि, प्रतिशब्द (गउड; गा ५५; सुर १, २४४) ।

पडिराय पुं [प्रतिराग] लाली, रक्तपन; 'उव्वहइ दइयगहियाहरोट्टुकिज्जंतरोसपडिरायं । पाणोसरंतमइरं व फलिहवसयं इमा वयणं' (गउड) ।

पडिरिग्गाअ [दे] देखो पडिरंजिअ (पड) ।

पडिरु अक [प्रति + रु] प्रतिव्वनि करना, प्रतिशब्द करना । वक्र. पडिरुअंत (से १२, ६; पि ४७३) ।

पडिरुंय } सक [प्रति + रुंय] १ रोकना, पडिरुंभ } अटकाना । २ व्याप्त करना । पडि-

रुंय (से ८, ३६) । वक्र. पडिरुंधंत (से ११, ५) ।

पडिरुद्ध वि [प्रतिरुद्ध] रोकना हुआ, अटकाना हुआ (सुपा ८५; वजा ५०) ।

पडिरुअ } वि [प्रतिरूप] १ रम्य, सुन्दर, पडिरुअ } चार, मनोहर; (सम १३७; उवा; श्रौप) । २ रूपवान्, प्रशस्त. रूपवाला, श्रेष्ठ आकृतिवाला (श्रौप) । ३ असाधारण रूपवाला । ४ नूतन रूपवाला (जोव ३) । ५ योग्य, उचित (स ८७; भग १५; दस ६, १) ।

६ सहस्र, समान (साया १, १—पत्र ६१) । ७ समान रूपवाला, सहस्र आकारवाला (उत्त २६, ४२) । ८ न. प्रतिविम्ब, प्रतिमूर्ति;

'कइयावि चित्तफलए कइया वि पडमि तस्स पडिख्वं लिहिज्जण' (सुर ११, २३८; राय) ।

९ समान रूप, समान आकृति; 'तुम्हपडिख्व-घारि पासइ विज्जाहरसुदाटं' (सुपा २६८) ।

१० पुं. इन्द्र-विशेष, भूत-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ११

विनय का एक भेद (वव १) ।

पडिरुंधंसि वि [प्रतिरूपिन्] रमणीय, सुन्दर (आचा २, ४, २, १) ।

पडिरुयग पुंन [प्रतिरूपक] प्रतिविम्ब, प्रतिमा; 'तिविसि पडिख्वगा य देवकया' (आव; वृह) ।

पडिरुवणया स्त्री [प्रतिरूपणता] १ समानता, सदृशता या सादृश्य । २ समान वेप-धारण (उत्त २६, १) ।

पडिरुवा स्त्री [प्रतिरूपा] एक कुलकर पुरुष की पत्नी का नाम (सम १५०) ।

पडिरोच पुं [प्रतिरोच] पुनराचरण (कुप्र ५५) ।

पडिरोह पुं [प्रतिरोध] रूकावट (गउड; गा ७२४) ।

पडिरोहि वि [प्रतिरोधिन्] रोकनेवाला (गउड) ।

पडिलंभ सक [प्रति + लम्] प्राप्त करना । संक्र. पडिलंभिय (सुप्र १, १३) ।

पडिलंभ पुं. [प्रतिलम्भ] प्राप्ति, लाभ (सुप्र २, ५) ।

पडिलग्गा वि [प्रतिलग्न] लगा हुआ, सम्बद्ध (से ६, ८६) ।

पडिलग्गल न [दे] बल्मीक, कीट-विशेष-कृत मृत्तिका-स्तूप (दे ६, ३३) ।

पडिलभ सक [प्रति + लम्] प्राप्त करना । पडिलभेज (उत्त १, ७) । संक्र. पडिलवभ (सुप्र १, १३, २) ।

पडिलाभ } सक [प्रति + लाभय, लम्भय] पडिलाह } साधु आदि को दान देना । पडि-लाहेज्जह (काल) । वक्र. पडिलाभेमाण (साया १, ५; भग; उवा) । संक्र. पडिला-भित्ता (भग ८, ५) ।

पडिलाहण न [प्रतिलाभन] दान देना (रंभा) ।

पडिलिहिअ वि [प्रतिलिखिअ] लिखा हुआ, 'सम्मं मंतं दुवारि पडिलिहिअ' (ति १४) ।

पडिलीण वि [प्रतिलीण] अत्यन्त लीन (धर्मवि ५३) ।

पडिलेह सक [प्रति + लेखय] १ निरीक्षण करना, देखना । २ विचार करना । पडिलेहेइ उव; कस; भग; 'एतेसु जाणे पडिलेह सायं, एतेण काएण य आयदंडं' (सुप्र १, ७, २) । संक्र. भूएहि जाणं पडिलेह सायं' (सुप्र १, ७, १६); पडिलेहिच्चा (भग) । हेक. पडिलेहित्तए, पडिलेहेत्तए (कप्प) । कृ. पडिलेहियव्व (श्रौष ४; कप्प) ।

पडिलेह पुं [प्रतिलेख] देखो पडिलेहइ (वेइय, २६६) ।

पडिलेहग देखो पडिलेहय (राज) ।

पडिलेहण न [प्रतिलेखन] निरीक्षण (श्रौष ३ भा; अंत) ।

पडिलेहणया देखो पडिलेहणा (उत्त २६, १) ।

पडिलेहणा स्त्री [प्रतिलेखना] निरीक्षण, निरूपण (भग) ।

पडिलेहणी स्त्री [प्रतिलेखनी] साधु का एक उपकरण, 'पुंजणी' (पत्र ६१) ।

पडिलेहय वि [प्रतिलेखक] निरीक्षक, देखनेवाला (श्रौष ४) ।

पडिलेहा स्त्री [प्रतिलेखा] निरीक्षण, अव-लोकन (श्रौष ३; ठा ५, ३; कप्प) ।

पडिलेहि वि [प्रतिलेखिन्] निरीक्षक (सुप्र १, ३, ३, ५) ।

पडिलेहिय वि [ प्रतिलेखित ] निरोधित,  
देखा हुआ (उवा) ।  
पडिलेहियव्य देखो पडिलेह ।  
पडिलोम वि [ प्रतिलोम ] प्रतिकूल (भग) ।  
२ विपरीत, उलटा (आचा २, २, २) । ३  
न. पश्चादानुपूर्वी, उलटा रूप; 'वर्त्यं दुहाणुलो-  
नेण तहय पडिलोमओ भवे वर्त्यं' (सुर  
१६, ४८; निचू १) । ४ उदाहरण का एक  
दोष (दसनि १) । ५ अपवाद (राज) ।  
पडिलोमइत्ता अ [ प्रतिलोमयित्वा ] वाद-  
विशेष. वादसभा के सदस्य या प्रतिवादी को  
प्रतिकूल बनाकर किया जाता वाद—शाब्दार्थ  
(ठा ६) ।  
पडिल्ली ली [ दे ] १ वृत्ति, वाड़ । २ यवनिका,  
परदा (दे ६, ६५) ।  
पडिव देखो पलोव = प्र + दीपय् । पडिवेइ  
(से ५, ६७) ।  
पडिवइर न [ प्रतिवैर ] वैर का बदला (भवि) ।  
पडिवई देखो पडिवया (पत्र २७१) ।  
पडिवंचण न [ प्रतिवचन ] बदला, 'वैर-  
पडिवंचणहू' (पत्रम २६, ७३) ।  
पडिवंध देखो पडिबंध (से २, ४६) ।  
पडिवंध देखो पडिवंध (भवि) ।  
पडिवंस पुं [ प्रतिवंश ] छोटा वंश (राय) ।  
पडिवक्क सक [ प्रति + वच् ] प्रत्युत्तर देना,  
जवाब देना । पडिवक्कइ (भवि) ।  
पडिवक्ख पुं [ प्रतिपक्ष ] १ रिपु, दुश्मन;  
विरोधी (पात्र; गां १५२; सुर १, ५६; २,  
१२६; से ३, १५) । २ छन्द-विशेष (पिंग) ।  
३ विपर्यय, वैपरीदव (सण) ।  
पडिवक्खिय वि [ प्रतिपक्षिक ] विरुद्ध पक्ष-  
वाला, विरोधी (सण) ।  
पडिवंच सक [ प्रति + वच् ] वापस जाना ।  
पडिवचइ (पि ५६०) ।  
पडिवच्छ देखो पडिवक्ख; 'अहं रावरमस्त  
वोसो पडिवच्छेहिपि पडिवणो' (गा ६७६) ।  
पडिवज्ज सक [ प्रति + पट् ] स्वीकार  
करना, अंगीकार करना । पडिवज्जइ, पडि-  
वज्जए (उव; महा; प्रासू १४१) । भवि.  
पडिवज्जिस्सोमि, पडिवज्जिस्सानो (पि ५२७;  
ओप) । वहु. पडिवज्जमाण (पि ५६२) ।  
संहु. पडिवज्जिऊण, पडिवज्जिच्चाणं.

पडिवज्जिय (पि ५८६; ५८३; महा;  
रंभा) । हेहु. पडिवज्जिउं, पडिवज्जित्तेप,  
पडिवत्तुं (पंचा १८; ठा २, १, कस;  
रंभा) । हु. पडिवज्जियव्व, पडिवज्जेयव्व  
(उत्त ३२; उप ६८४; १००१) ।  
पडिवज्जण न [ प्रतिपट् ] स्वीकार, अंगी-  
कार (कुप्र १४७) ।  
पडिवज्जण न [ प्रतिपादन ] अंगीकारण,  
स्वीकार करवाना (कुप्र १४७; ३८६) ।  
पडिवज्जणया ली [ प्रतिपटना ] स्वीकार  
(एंदि २३२) ।  
पडिवज्जणया ली [ प्रतिपादना ] प्रतिपादन  
(एंदि २३२) ।  
पडिवज्जय वि [ प्रतिपादक ] स्वीकार करने-  
वाला; 'एस ताव कसणयवलपडिवज्जओ ति'  
(स ५०५) ।  
पडिवज्जावण न [ प्रतिपादन ] स्वीकारण,  
स्वीकार कराना (कुप्र ६६) ।  
पडिवज्जाविय वि [ प्रतिपादित ] स्वीकार  
कराया हुआ महा) ।  
पडिवज्जिय वि [ प्रतिपन्न ] स्वीकृत (भवि) ।  
पडिवट्टअ न [ प्रतिपट्टक ] एक प्रकार का  
रेशमी कपड़ा (कप्पू) ।  
पडिवट्टावअ वि [ प्रतिवर्धापक ] १ बघाई  
देने पर उसे स्वीकार कर वच्यवाद देनेवाला ।  
२ बघाई के बदले में बघाई देनेवाला । ली.  
विआ (कप्पू) ।  
पडिवण वि [ प्रतिपन्न ] १ प्राप्त; (भग) ।  
२ स्वीकृत, अंगीकृत (पट्) । ३ आश्रित  
(ओप; ठा ७) । ४ जिसने स्वीकार किया हो  
वह (ठा ४, १) ।  
पडिवत्त पुं [ परिवर्त्त ] परिवर्तन (नाट. मृच्छ  
३१८) ।  
पडिवत्तण देखो पडिअत्तण (नाट) ।  
पडिवत्ति ली [ प्रतिपत्ति ] १ परिच्छित्ति ।  
२ प्रकृति, प्रकार (वित्त ५७८) । ३ प्रवृत्ति,  
खबर (पत्रम ४७, ३०; ३१) । ४ ज्ञान  
(सुर १४, ७४) । ५ आदर, गौरव (महा) ।  
६ स्वीकार, अंगीकार (एंदि) । ७ लाभ,  
प्राप्ति; 'वम्मपडिवत्तिहेज्जणोएण' (महा) ।  
न मत्तात्तर । ८ अभिग्रह-विशेष (सम १०६) ।

१० भक्ति, सेवा (कुमा; महा) । ११ परि-  
पाटी, क्रम (आव ४) । १२ श्रुत-विशेष, गति,  
इन्द्रिय आदि द्वारों में से किसी एक द्वार के  
जरिये समस्त संसार के जीवों को जानना  
(कम्म २, ७) । १३ समास पुं [ समास ]  
श्रुत-ज्ञान विशेष—गति आदि दो द्वार  
द्वारों के जरिये जीवों का ज्ञान (कम्म १, ७) ।  
पडिवत्तुं देखो पडिवज्ज ।  
पडिवादि देखो पडिवत्ति (प्राप्र) ।  
पडिवट्टावअ देखो पडिवट्टावअ । ली.  
विआ (रंभा) ।  
पडिवज्ज देखो पडिवण; 'पडिवज्जपालणे  
सुपुरिसाण जं होइ तं होइ' (प्रासू ३; एयाव  
१, ५; उवा; सुर ४, ५७; स ६५६; हे २,  
२०६; पात्र) ।  
पडिवज्जिय (अप) देखो पडिवण (भवि) ।  
पडिवय अक [ प्रति + पत् ] ऊंचे जाकर  
गिरना । वहु. पडिवयमाण (आचा) ।  
पडिवय सक [ प्रति + वच् ] उत्तर देना ।  
भवि. पडिवक्कामि (सुर १, ११, ६) ।  
पडिवयण न [ प्रतिवचन ] १ प्रत्युत्तर,  
जवाब (गा ४१६; सुर २, १२३; भवि) ।  
२ आदेश, आज्ञा; 'देहि मे पडिवयणं'  
(आवम) । ३ पुं. हरिवंश के एक राजा का  
नाम (पत्रम २२, ६७) ।  
पडिवया ली [ प्रतिपन्न ] पडवा, पक्ष की  
पक्षी तिवि (हे १, ४४; २०६; पट्) ।  
पडिवयिय वि [ प्रत्युत्त ] फिर से बोया हुआ  
(दे ६, १३) ।  
पडिवस अक [ प्रति + वस् ] निवास करना ।  
वहु. पडिवसत्तुं (पि ३६७; नाट—मृच्छ  
३२१) ।  
पडिवसभ पुं [ प्रतिवृपभ ] मूल स्थान से  
दो कोस की दूरी पर स्थित गाँव (पत्र ७०) ।  
पडिवइ सक [ प्रति + वहु ] बहन करना,  
ढोना । कवइ. पडिवुत्तमाण (कप्पू) ।  
पडिवह देखो पडिपह (से ३, २४; ८, ३३;  
पत्रम ७३, २४) ।  
पडिवह पुं [ प्रतिवध, परिवध ] बध, हत्या  
(पत्रम ७३, २४) ।  
पडिवा देखो पडिवया (सुज १०, १४) ।

पडिवाइ वि [प्रतिवादिन्] प्रतिवाद करने-  
वाला, नादो का विपक्षी (भवि ५१, ३) ।  
पडिवाइ वि [प्रतिपादिन्] प्रतिपादन करने-  
वाला (भवि ५१, ३) ।  
पडिवाइ वि [प्रतिपातिन्] १ विनश्वर, नष्ट  
होने के स्वभाववाला (ठा २, १; ओघ  
५३२; उप पृ ३५८) । २ अवधिज्ञान का  
एक भेद, फूँक से दीपक के प्रकाश के समान  
एकाएक नष्ट होनेवाला अवधिज्ञान (ठा ६;  
कम्म १, ८) ।  
पडिवाइअ वि [प्रतिपातित] १ फिर से  
गिराया हुआ । २ नष्ट किया हुआ (भवि) ।  
पडिवाइअ वि [प्रतिपादित] जिसका प्रति-  
पादन किया हो वह, निरूपित (अच्छु ५;  
स ४६; ५४३) ।  
पडिवाइअ वि [प्रतिवाचित] १ लिखने के  
बाद पढ़ा हुआ । २ फिर से बोला हुआ  
(कुप्र १६७) ।  
पडिवाइऊण } देखो पडिवाय = प्रति +  
पडिवाइयव्व } वाचय् ।  
पडिवाइय देखो पडिवाइ = प्रतिपातिन् (एदि  
८१) ।  
पडिवाडि देखो परिवाडि (गा ५३०) ।  
पडिवाद् (शौ) सक [प्रति + पादय्] प्रतिपादन  
करना, निरूपण करना । पडिवादेदि  
(नाट—रत्ना ५७) । कृ. पडिवाद्दिण्ज्ज  
(अभि ११७) ।  
पडिवादय वि [प्रतिपादक] प्रतिपादन  
करनेवाला । बौ. दिआ (नाट—चैत ३४) ।  
पडिवाय सक [प्रति + वाचय्] १ लिखने  
के बाद उसे पढ़ लेना । २ फिर से पढ़ लेना ।  
संक्र. पडिवाइऊण (कुप्र १६७) । कृ.  
पडिवाइयव्व (कुप्र १६७) ।  
पडिवाय सक [प्रति + पादय्] प्रतिपादन  
करना, निरूपण करना । पडिवाययति (सुअ  
१, १४, २६) ।  
पडिवाय पुं [प्रतिपात] १ पुनः-पतन, फिर  
से गिरना (नव ३६) । २ नाश, ध्वंस  
(विसे ५७७) ।  
पडिवाय पुं [प्रतिवाद्] विरोध (भवि) ।  
पडिवाय पुं [प्रतिवात] प्रतिकूल पवन  
(आवम) ।

पडिवायण न [प्रतिपादन] निरूपण (कुप्र  
११६) ।  
पडिवारय देखो परिवार; 'पडिवारयपरि-  
वरयो' (महा) ।  
पडिवाल सक [प्रति + पालय्] १ प्रतीक्षा  
करना, वाट जोहना । २ रक्षण करना ।  
पडिवालेइ (हे ४, २५६) । पडिवालेदु (शौ),  
(स्वप्न १००) । पडिवालह (अभि १८५) ।  
वक्र. पडिवालअंत, पडिवालेमाण (नाट-  
रत्ना ४८; एया १, ३) ।  
पडिवालण न [प्रतिपालन] १ रक्षण । २  
प्रतीक्षा, वाट (नाट—महा ११८; उप  
६६६) ।  
पडिवाल्लिअं वि [प्रतिपालित] १ रक्षित ।  
२ प्रतीक्षित, जिसकी वाट देखी गई हो वह  
(महा) ।  
पडिवास पुं [प्रतिवास] औपव आदि को  
विशेष उरुकट बनानेवाला चूर्ण आदि (उर  
८, ५; सुपा ६७) ।  
पडिवासर न [प्रतिवासर] प्रतिदिन, हर  
रोज (गउड) ।  
पडिवासुदेव पुं [प्रतिवासुदेव] वामुदेव का  
प्रतिपक्षी राजा (पउम २०, २०२) ।  
पडिविक्रिण सक [प्रतिवि + क्रो] देवना ।  
पडिविक्रिणइ (आक ३३; पि ५११) ।  
पडिविज्जा स्त्री [प्रतिविद्या] प्रतिपक्षी विद्या,  
विरोधी विद्या (पिठ. ४६७) ।  
पडिविधर पुं [प्रतिविस्तर] परिकर, विस्तार  
(सुअ २, २, ६२ टी; राज) ।  
पडिविद्धंसण न [प्रतिविध्वंसन] विनाश,  
ध्वंस (राज) ।  
पडिविप्पिय न [प्रतिविप्रिय] अपकार का  
बदला, बदले के रूप में किया जाता अनिष्ट  
(महा) ।  
पडिविरइ स्त्री [प्रतिविरति] निवृत्ति (परह  
२, ३) ।  
पडिविरय वि [प्रतिविरत] निवृत्त (सम  
५१; सुअ २, २, ७५; औप; उव) ।  
पडिविसज्ज सक [प्रतिवि + सज्जय्] वि-  
सर्जन करना, विदा करना । पडिविसज्जेइ  
(कप्प; औप) । भवि. पडिविसज्जेहिंति  
(औप) ।

पडिविसज्जिय वि [प्रतिविसर्जित] विदा  
किया हुआ, विसर्जित (एया १, १—पव  
३०) ।  
पडिविहाण न [प्रतिविधान] प्रतीकार (स  
५६७) ।  
पडिवुज्जमाण देखो पडिवह = प्रति + वह् ।  
पडिवुत्त वि [प्रत्युत्त] १ जिसका उत्तर  
दिया गया हो वह (अनु ३; उप ७२८ टी) ।  
२ न. प्रत्युत्तर (उप ७२८ टी) ।  
पडिवुद्द (शौ) वि [परिवृत्त] परिकरित  
(अभि ५७; नाट—मृच्छ २०५) ।  
पडिवूह पुं [प्रतिव्यूह] व्यूह का प्रतिपक्षी  
व्यूह, सैन्य-रचना-विशेष (औप) ।  
पडिवूहण वि [प्रतिवृहण] १ बढ़नेवाला  
(आचा १, २, ५, ५) । २ न. वृद्धि, पुष्टि  
(आचा १, २, ५, ४) ।  
पडिवेस पुं [दे] विशेष, फँकना (दे ६, २१) ।  
पडिवेसिअ वि [प्रतिवेशिक] पड़ोसी,  
पड़ोस में रहनेवाला (दे ६, ३, सुपा ५५२) ।  
पडिवोह देखो पडिवोह (सण) ।  
पडिसंका स्त्री [प्रतिशङ्का] भय, शंका  
(पउम ६७, १५) ।  
पडिसंखा सक [प्रतिसं + खया] व्यवहार  
करना, व्यपदेश करना । पडिसंखाए (आचा) ।  
पडिसंखिव सक [प्रतिसं + क्षिप्] संक्षेप  
करना । संक्र. पडिसंखिविय (भग १४, ७) ।  
पडिसंखेव सक [प्रतिसं + क्षेपय्] संकेलना,  
समेटना । वक्र. पडिसंखेवेमाण  
(राय ४२) ।  
पडिसंचिक्ख सक [प्रतिसम् + ईक्ष्] चिन्तन  
करना । पडिसंचिक्खे (उत्त २, ३१) ।  
पडिसंजल सक [प्रतिसं + ज्वालय्] उद्दीपित  
करना । पडिसंजलेज्जासि (आचा) ।  
पडिसंत वि [परिशान्त] शान्त, उपशान्त  
(से ६, ६१) ।  
पडिसंत वि [प्रतिश्रान्त] विश्रान्त (वृह १) ।  
पडिसंत वि [दे] १ प्रतिकूल । २ अस्तमित,  
अस्त-प्राप्त (दे ६, १६) ।  
पडिसंध १ सक [प्रतिसं + धा] १ फिर  
पडिसंधया } से साधना । २ उत्तर देना ।



३ अनुकूल करना। पडिसंवए (उत्त-२७; १)। पडिसंववाद (सूत्र-२, ६, ३)। संक्र. पडिसंधाय (सूत्र २, २, २६)।  
 पडिसंध } सक [प्रतिसं + धा] १ आदर  
 पडिसंधा } करना। २ स्वीकार करना। पडि-  
 संवए (पञ्च ७)। संक्र. पडिसंधाय (सूत्र  
 २, २, ३१; ३२; ३३; ३४, ३५)।  
 पडिसंमुह न [प्रतिसंमुख] संमुख, सामने;  
 'ग्रो पडिसंमुहं पञ्जोयत्स' (महा)।  
 पडिसंलाय पुं [प्रतिसंलाप] प्रव्युत्तर, जवाब  
 (सि १, २६; ११, ३४)।  
 पडिसंलीण वि [प्रतिसंलीन] १ सम्यक्  
 लीन, अच्छी तरह लीन। २ निरोध करने-  
 वाला (ठा ४, २; श्रौप)। °पडिया ली  
 [°प्रतिमा] क्रोध आदि के निरोध करने की  
 प्रतिज्ञा (श्रौप)।  
 पडिसंविक्ख सक [प्रतिसंवि + ईच्]।  
 विचार करना। पडिसंविक्खे (उत्त २, ३१)।  
 पडिसंवेद } सक [प्रतिसं + वेद्यु]।  
 पडिसंवेय } अनुभव करना। पडिसंवेदेइ,  
 पडिसंवेयंति (भग; पि ४६०)।  
 पडिसंसाहणया ली [प्रतिसंसाधना]।  
 अनुब्रजन, अनुगमन (श्रौप; भग १४; ३;  
 २५, ७)।  
 पडिसंहर सक [प्रतिसं + हृ] १ निवृत्त  
 करना। २ निरोध करना। पडिसंहरेज्जा  
 (सूत्र १, ७, २०)।  
 पडिसक्क देखो परिसक्क। पडिसक्कइ  
 (भवि)।  
 पडिसडण न [प्रतिशदन, परिशदन] १  
 सड़ जाना। २ विनाश; 'निरुत्तरपडिसडण-  
 सीलाणि आउदलाणि' (काल)।  
 पडिसडिय वि [परिशदित] जो सड़ गया  
 हो, जो विशेष जाँच हुआ हो वह (पिड  
 ५१७)।  
 पडिसत्तु पुं [प्रतिशत्रु] प्रतिपक्षी, दुश्मन,  
 वैरो (सम १५३; पठम ५, १५६)।  
 पडिसत्थ पुं [प्रतिसार्थ] प्रतिकूल वृथ (निच्  
 ११)।  
 पडिसइ पुं [प्रतिशब्द] १ प्रतिव्यनि (पञ्चम  
 १६, ५३; भद्रि)। २ उत्तर, प्रव्युत्तर, जवाब  
 (पठम ६, ३५)।

पडिसदिय वि [प्रतिशब्दित] प्रतिव्यनि-  
 युक्त (सम्मत २१८)।  
 पडिसम अक [प्रति + शम्] विरत होना।  
 पडिसमइ (सि ६, ४५)।  
 पडिसमाहर सक [प्रतिसमा + हृ] पीछे  
 लौंच लेना: 'दिट्ठि पडिसमाहरं' (दत्त ८,  
 ५५)।  
 पडिसय पुं [प्रतिश्रय] उपाश्रय, साधु का  
 निवासस्थान (दत्त २, १, टी)।  
 पडिसर पुं [प्रतिसर] १ सैन्य का पश्चाद्भाग  
 (प्राप्र)। २ हस्त-सूत्र, वह धागा जो विवाह  
 से पहले बर-बधु के हाथ में रखार्थ बांधते हैं;  
 कंकण (धर्म २)।  
 पडिसरण न [प्रतिसरण] कंकण (पंचा  
 ८, १५)।  
 पडिसरीर न [प्रतिशरीर] प्रतिमूर्ति, 'पट्ट-  
 विग्रो पडिसरीरं व' (धर्मवि ३)।  
 पडिसलागा ली [प्रतिशलाका] पत्य-विशेष  
 (कम्म ४, ७३)।  
 पडिसव सक [प्रति + शप्] शाप के बदले  
 में शाप देना. 'अहमाहरो ति न य पडि-  
 हणंति सत्तावि न य पडिसवंति' (ज्व)।  
 पडिसव सक [प्रति + श्रु] १ प्रतिज्ञा  
 करना। २ स्वीकार करना। ३ आदर करना।  
 कृ. पडिसवणीय (सण)।  
 पडिसवत्त वि [प्रतिसपत्त] विरोधी शत्रु  
 (दत्तनि ६, १८)।  
 पडिसा अक [शम्] शान्त होना। पडिसाइ  
 (हे ४, १६७)।  
 पडिसा अक [नश्] भागना, पलायन  
 होना। पडिसाइ, पडिसति (हे ४, १७८;  
 कुमा)।  
 पडिसाइल वि [दे] जिसका गला बैठ गया  
 हो, घबंर करणवाला (दे ६, १७)।  
 पडिसाइ सक [प्रति + शाद्यु, परि-  
 शाद्यु] १ सड़ाना। २ पलटाना। ३ नाश  
 करना। पडिसाइति (आचा २, १५, १८)।  
 संक्र. पडिसाइत्ता (आचा २, १५, १८)।  
 पडिसाइणा ली [परिशदना] च्युत करना,  
 भ्रष्ट करना (वव १)।  
 पडिसाम अक [शम्] शान्त होना। पडिसा-  
 मइ (हे ४, १६७; पड)।  
 पडिसाय वि [शान्त] शान्त, शम-प्राप्त  
 (कुमा)।

पडिसाय पुं [दे] घबंर करण, वैठा हुआ  
 गला (दे ६, १७)।  
 पडिसार सक [प्रतिस्मारयु] याद दिलाना।  
 पडिसारेउ (भग १५)।  
 पडिसार सक [प्रति + सारयु] सजाना,  
 सजावट करना। पडिसारेदि (शौ), कर्म-  
 पडिसारीप्रदि (शौ) (कप्पु)।  
 पडिसार सक [प्रति + सारयु] खिसकाना,  
 हटाना, अन्य स्थान में ले जाना। पडिसारेइ  
 (सि १०, ७०)।  
 पडिसार पुं [दे] १ पटुता। २ वि. निपुण,  
 पटु, चतुर (दे ६, १६)।  
 पडिसार पुं [प्रतिसार] १ सजावट। २  
 अपसरण। ३ विनाश। ४ पराङ्मुखता (हे  
 १, २०६; दे ६, ७६)।  
 पडिसार पुं [प्रतिसार] अपसारण (हे १,  
 २०६)।  
 पडिसारण न [प्रतिस्मारण] याद दिलाना  
 (वव १)।  
 पडिसारणा ली [प्रतिस्मारणा] संस्मारण  
 (भग १५)।  
 पडिसारिअ वि [दे] स्मृत, याद किया हुआ  
 (दे ६, ३३)।  
 पडिसारिअ वि [प्रतिसारित] १ दूर किया  
 हुआ, अपसारित (सि ११, १)। २ विनाशित  
 (सि १४, ५८)। ३ पराङ्मुख (सि १३,  
 ३२)।  
 पडिसारी ली [दे] जवनिका, परदा (दे ६,  
 २२)।  
 पडिसाइ सक [प्रति + कथयु] उत्तर देना।  
 पडिसाइज्जा (सूत्र १, ११, ४)।  
 पडिसाइर सक [प्रतिसं + हृ] निवृत्त करना।  
 पडिसाइरेज्जा (सूत्र २, २, ८५)।  
 पडिसाइर सक [प्रतिसं + हृ] १ सकेलना,  
 समेटना। २ वापस ले लेना। ३ ऊँचे ले  
 जाना। पडिसाइरइ (श्रौप; शाया १, १—  
 पत्र ३३)। संक्र. पडिसाइरित्ता, पडिसा-  
 हरिय (शाया १, १; भग १४, ७)।  
 पडिसाइरण न [प्रतिसंहरण] १ समेट-  
 संकोच। २ विनाश; 'सीयतेथलेत्सापडिसाइर-  
 णट्टयाए' (भग १५—पत्र ६६६)।

पडिसिद्ध वि [दे] १ भीत, डरा हुआ । २ भग्न, वृद्धि (दे ६, ७१) ।

पडिसिद्ध वि [प्रतिपिद्ध] निपिद्ध, निवारित (पात्र; उव; श्रौघ १ टी; सण) ।

पडिसिद्धि स्त्री [दे] प्रतिस्पर्धा (पङ्) ।

पडिसिद्धि स्त्री [प्रतिसिद्धि] १ अनुरूप सिद्धि । २ प्रतिकूल सिद्धि (हे १, ४४; पङ्) ।

पडिसिद्धि देखो पडिप्फद्धि (संक्षि १६) ।

पडिसिलोग पुं [प्रतिश्लोक] श्लोक के उत्तर में कहा गया श्लोक (सम्मत १४६) ।

पडिसिधिणअ पुं [प्रतिस्वप्नक] एक स्वप्न का विरोधी स्वप्न, स्वप्न का प्रतिकूल स्वप्न (कप्प) ।

पडिसीसअ } न [प्रतिशीर्षक] १ शिरो-  
पडिसीसक } वेष्टन, पगड़ी (कप्पु) । २ सिर के प्रतिरूप सिर, पिसान (आटा) आदि का बनाया हुआ सिर (पएह १, २—पत्र ३०) ।

पडिसुइ पुं [प्रतिश्रुति] १ ऐश्वर्य वप के एक भावी कुलकर (सम १५३) । २ भरतक्षेत्र में उत्पन्न एक कुलकर पुरुष का नाम (पउम ३, ५०) ।

पडिसुण सक [प्रति + श्रु] १ प्रतिज्ञा करना । २ स्वीकार करना । पडिसुणइ, पडिसुणैइ (श्रौघ; कप्प; उवा) । वक्र. पडिसुणमाण (वव १; पि ५०३) । संक्र. पडिसुणित्ता, पडिसुणेत्ता (श्राव ४; कप्प) । हेहू. पडिसुणेत्ताए (पि ५७५) ।

पडिसुणण न [प्रतिश्रवण] श्रंगीकार (उप ४६३) ।

पडिसुणण स्त्री न [प्रतिश्रवण] १ सुनाना, सुनकर उसका जवाब देना, प्रत्युत्तर (पत्र २) । स्त्री. ंणा (पत्र २) । २ श्रवण (पंचा १२, १५) ।

पडिसुणणा स्त्री [प्रतिश्रवण] १ श्रंगीकार, स्वीकार । २ मुनि-भिक्षा का एक दोष, श्रावाकर्म-दोषवाली भिक्षा लाने पर उसका स्वीकार और अनुमोदन (धर्म ३) ।

पडिसुण्ण वि [प्रतिशून्य] खाली, रिक्त, शून्य; 'नय निलया निचपडिसुण्णा' (ठा १ टी—पत्र २६) ।

पडिसुत्ति वि [दे] प्रतिकूल (दे ६, १५) ।

पडिसुद्ध वि [परिशुद्ध] अत्यन्त शुद्ध (चिइय ५०७) ।

पडिसुय वि [प्रतिश्रुत] १ स्वीकृत; श्रंगीकृत (उप पृ १५४) । २ न. श्रंगीकार, स्वीकार (उत्त २६) । देखो पडिस्सुय ।

पडिसुया देखो पडंसुआ = प्रतिश्रुत (पएह १, १—पत्र १५) ।

पडिसुया स्त्री [प्रतिश्रुता] प्रवज्या-विशेष, एक प्रकार की वीणा (ठा १० टी—पत्र ४७४) ।

पडिसुहइ पुं [प्रतिसुभट] प्रतिपक्षी योद्धा (काल) ।

पडिसुयग पुं [प्रतिसूचक] गुप्तचरों की एक श्रेणी; नगर-द्वार पर रहनेवाला जासूस (वव १) ।

पडिसूर वि [दे] प्रतिकूल (दे ६, १६; भवि) ।

पडिसूर पुं [प्रतिसूर्य] सूर्य के सामने देखा जाता उल्कादि-सूचक द्वितीय सूर्य (अणु १२०) ।

पडिसूर पुं [प्रतिसूर्य] इन्द्र-धनुष (राज) ।

पडिसेज्जा स्त्री [प्रतिशय्या] शय्या-विशेष, उत्तर-शय्या (भग ११, ११; पि १०१) ।

पडिसेग पुं [प्रतिपेक] नख के नीचे का भाग (राय ६४) ।

पडिसेव सक [प्रति + सेव] १ प्रतिकूल सेवा करना, निपिद्ध वस्तु की सेवा करना । २ सहन करना । ३ सेवा करना । पडिसेवइ, पडिसेवए, पडिसेवति (कस, वव ३, उव) । वक्र. पडिसेवत, पडिसेवमाण (पंचू ५; सम ३६; पि १७); 'पडिसेवमाणो फलसाई अचले भगवं रीइत्था' (आचा) । कृ. पडिसेवियव्व (वव १) ।

पडिसेवग देखो पडिसेवय (निचू १) ।

पडिसेवण न [प्रतिपेवण] निपिद्ध वस्तु का सेवन (कस) ।

पडिसेवणा स्त्री [प्रतिपेवणा] ऊपर देखो (भग २५, ७; उव; श्रौघ २) ।

पडिसेवय वि [प्रतिपेचक] प्रतिकूल सेवा करनेवाला, निपिद्ध वस्तु का सेवन करनेवाला (भग २५, ७) ।

पडिसेवा स्त्री [प्रतिपेवा] १ निपिद्ध वस्तु का आसेवन (उप ५०१) । २ सेवा (कुप्र ५२) ।

पडिसेवि वि [प्रतिपेविन्] शास्त्र-प्रतिपिद्ध वस्तु का सेवन करनेवाला (उव; पउम ५; २५) ।

पडिसेविअ वि [प्रतिपेवित] जिस निपिद्ध वस्तु का आसेवन किया गया हो वह (कप्प; श्रौघ) ।

पडिसेवेत्तु वि [प्रतिपेवित्तु] प्रतिपिद्ध वस्तु की सेवा करनेवाला (ठा ७) ।

पडिसेह सक [प्रति + सिध] निपेव करना, निवारण करना । कृ. पडिसेहेअव्व (भग) ।

पडिसेह पुं [प्रतिपेध] निपेव, निवारण, रोक (श्रौघ ६ भा; पंचा ६) ।

पडिसेहग वि [प्रतिपेधक] निपेव-कर्ता (धर्मसं ४०; ६१२) ।

पडिसेहण न [प्रतिपेधन] ऊपर देखो (विसे २७५१; आ २७) ।

पडिसेहिय वि [प्रतिपेधित] जिसका प्रतिपेव किया गया हो वह, निवारित (विपा १, ३) ।

पडिसेहेअव्व देखो पडिसेह = प्रति + सिध् ।

पडिसोअ पुं [प्रतिस्सोतस] प्रतिकूल पडिसोत्त ] प्रवाह, उलटा प्रवाह (ठा ४, ४; हे, २, ६५; उप २५२; पि ६१) ।

पडिसोत्त वि [दे] प्रतिकूल (पङ्) ।

पडिस्संत देखो परिस्संत (नाट—मृच्छ १५५) ।

पडिस्संति स्त्री [परिश्रान्ति] परिश्रम (नाट—मृच्छ ३२१) ।

पडिस्सय पुं [प्रतिश्रय] जैन साधुओं को रहने का स्थान, उपाश्रय (श्रौघ ५७ भा; उप ५७१; स ६५७) ।

पडिस्सर देखो पडिसर (पंचा ५, ४६) ।

पडिस्साव सक [प्रति + श्रावय्] १ प्रतिज्ञा कराना । २ स्वीकार कराना । वक्र. पडिस्सावअन्त (नाट—वेणी १५) ।

पडिस्सावि वि [प्रतिस्साविन्] भरनेवाला, उपकनेवाला (राज) ।

पडिस्सुण सक [प्रति + श्रु] १ सुनना । २ श्रंगीकार करना । पडिस्सुणंति (सूत्र २, ६, ३०) । पडिस्सुणैज्जा (सूत्र १, १४, ६) ।

पडिस्सुणे (उत्त १, २१) ।

पडिस्सुय वि [प्रतिश्रुत] १ प्रतिज्ञात । २ स्वीकृत (महा; ठा १०) । देखो पडिसुय ।

पडिस्सुया देखो पडंसुआ (गाथा १, ५) ।  
 पडिस्सुया देखो पडिस्सुया = प्रतिश्रुता (ठा  
 १०—पत्र ४७३) ।  
 पडिहच्छ वि [दे] पूर्ण (सण) । देखो  
 पडिहत्थ ।  
 पडिहट्टु अ [प्रतिहृत्य] अरण करके (कस;  
 वृह ३) ।  
 पडिहड पुं [प्रतिभट्ट] प्रतिपत्ती योद्धा (सि  
 ३, ५३) ।  
 पडिहण सक [प्रति + हन्] प्रतिघात करना,  
 प्रतिहिंसा करना । पडिहणंति (उव) ।  
 पडिहणण न [प्रतिहनन] १ प्रतिघात । २  
 वि. प्रतिघातक (कुप्र ३७) ।  
 पडिहणणा ली [प्रतिहनन] प्रतिघात (ओप  
 ११०) ।  
 पडिहणिय देखो पडिहय (सुपा २३) ।  
 पडिहणिय देखो पडिभणिय (वमंसं ७०८) ।  
 पडिहत्थ वि [दे] १ पूर्ण, भरा हुआ (दे ६,  
 २८; पात्र; कुप्र ३४; वजा १२६; उप पृ  
 १८१; सुर ४, २३६; सुपा ४८८); 'पडिह-  
 त्थविगहवइवमणे ता वज्ज उजाणं' (वाप्र  
 १५) । २ प्रतिक्रिया, प्रतिकार, बदला । ३ वचन,  
 वाणी (दे ६, १६) । ४ अतिप्रभूत (जीव  
 ३) । ५ अपूर्ण, अद्वितीय (पड्) ।  
 पडिहत्थ सक [दे] प्रत्युपकार करना, उपकार  
 का बदला चुकाना । पडिहत्थेइ (सि १२,  
 ६६) ।  
 पडिहत्थ वि [प्रतिहस्त] तिरस्कृत (चंड) ।  
 पडिहत्थो ली [दे] बुद्धि (दे ६, १७) ।  
 पडिहम्म देखो पडिहण । पडिहम्मज्जा (पि  
 ५४०) । भवि. पडिहम्महिइ (पि ५४६) ।  
 डिहय वि [प्रतिहृत] प्रतिघात-प्राप्त (ओप;  
 कुमा; महा; सण) ।  
 पडिहर सक [प्रति + हृ] फिर से पूर्ण करना ।  
 पडिहरइ (हि ४, २५६) ।  
 पडिहा अक [प्रति + भा] मालूम होना,  
 लगना । पडिहाइ (वज्जा १६२; पि ४८७) ।  
 पडिहा ली [प्रतिभा] बुद्धि-विशेष, नूतन-  
 नूतन उल्लेख करने में समर्थ बुद्धि (कुमा) ।  
 पांडहा देखो पडिहाय = प्रतिघात; 'पंचविहा  
 पडिहा पन्नत्ता, तं जहा, गतिपडिहा' (ठा ५,  
 १—पत्र ३०३) ।

पडिहाण देखो पणिहाण; 'मण्डुवाडिहाणे'  
 (उवा) ।  
 पडिहाण न [प्रतिभाग] प्रतिभा, बुद्धि-  
 विशेष । १ वि [वत्] प्रतिभावाला (सुप्र  
 १, १३; १४) ।  
 पडिहाय देखो पडिहा = प्रति + भा । पडिहा-  
 यइ (सि ४६१; स ७५६) ।  
 पडिहाय पुं [प्रतिघात] १ प्रतिहनन, घात  
 का बदला । २ निरोध, अटक, रोक  
 (पउम ६, ५३) ।  
 पडिहार पुं [प्रतिहार] इन्द्र-नियुक्त देव (पप  
 ३६) ।  
 पडिहार पुं ली [प्रतिहार] क्षायाज, दरवान  
 (हे १, २०६; गाथा १, ५; स्वप्न २२८;  
 अग्नि ७७) । ली. १ शी (गृह १) ।  
 पडिहारिय देखो पाडिहारिय (कस; आचा  
 २, २, ३, १७; १८) ।  
 पडिहारिय वि [प्रतिहारित] अक्ल, रोक  
 हुआ (सि ५४६) ।  
 पडिहास अक [प्रति + भास्] मालूम  
 होना, लगना । पडिहासेदि (शौ) (नाट) ।  
 पडिहास पुं [प्रतिभास] प्रतिभास, प्रतिमान  
 (हे १, २०६, पड्) ।  
 पडिहासिय वि [प्रतिभासित] जिसका  
 प्रतिभास हुआ हो वह (उप ६८६ टो) ।  
 पडिहुअ पुं [प्रतिभू] जामीन, जामीन-  
 पडिहू } दार, मनौतिया (पात्र; दे ५, ३८) ।  
 पडिहू अक [परि + भू] परामर्श करना,  
 हराना । कवक. पडिहूअमाण (अग्नि ३६) ।  
 पडी ली [पटी] वस्त्र, कपड़ा (गलड; सुर ३,  
 ४१) ।  
 पडीआर पुं [प्रतीकार] देखो पडिआर =  
 प्रतिकार (वेणी १७७; कुप्र ६१) ।  
 पडीकर सक [प्रति + कृ] प्रतिकार करना ।  
 पडीकरेमि (मै ६६) ।  
 पडीकार देखो पडिआर (पएह १, १) ।  
 पडीछ देखो पडिच्छ = प्रति = इप् । पडी-  
 छंति (पि २७५) ।  
 पडीण वि [प्रतीचीन] पश्चिम दिशा से संबन्ध  
 रखनेवाला (आचा; ओप; ठा ५, ३) । १ वाय  
 पुं [वात] पश्चिम का वायु (ठा ७) ।

पडीणा ली [प्रतीची] पश्चिम दिशा (ठा  
 ६—पत्र ३५६; सूप्र २, २, ५८) ।  
 पडीर पुं [दे] चौर-समूह, चोरों का समूह (दे  
 ६, ८) ।  
 पडीव वि [प्रतीप] प्रतिघ्न, प्रतिघती,  
 विरोधी (भवि) ।  
 पडु वि [पट्ट] निपुण, चतुर, कुशल (ओप;  
 कुमा; सुर २, १४५) ।  
 पडु (प्रा) देखो पडिअ = पति (पिय) ।  
 पडुआलिअ वि [दे] १ निपुण बनाया  
 हुआ । २ ताड़ित, पिटा हुआ । ३ पारित  
 (दे ६, ७३) ।  
 पडुकलेव पुं [प्रत्युत्क्षेप] १ वाय-  
 वानि । २ उत्थापन, उठान (मणु १३१) ।  
 पडुकत्तेव पुं [प्रत्युत्क्षेप, प्रतिक्षेप] १ वाय-  
 वानि । २ अण, फेंकना; 'समतानपटुत्तेव'  
 (ठा ७—पत्र ३६४) ।  
 पडुव अ [प्रतीत्य] १ आश्रय करके (माचा;  
 सूप्र १, ७; सम ३३; नय ३६) । २ अज्ञान  
 करके (भग) । ३ अधिकार करके; 'पडुव ति  
 वा पप ति वा महित्तिप ति वा एण्टु'  
 (आनु १; अणु) । ४ अण न [अण] वि  
 ली की अज्ञान से जो कुछ करना, प्रा-  
 न्तिक कृति (गृह १) । ५ भाव पुं [भाव]  
 सप्रतियोगिक पदार्थ, आध्यात्मिक वस्तु (भाव  
 २८) । ६ वयण न [वचन] आध्यात्मिक वचन  
 (सम्म १००) । ७ सत्ता ली [सत्या] तथ्य  
 भाषा का एक भेद, अज्ञान-रहित तथ्य वचन  
 (पएण ११) ।  
 पडुच्चा ऊपर देखो; 'जे हित्तंति आयमुहं  
 पडुच्चा' (सुप्र १, ५, १, ४) ।  
 पडुजुवइ ली [दे] पुवति, तल्ली (दे ६,  
 ३१) ।  
 पडुत्तिया ली [प्रत्युक्ति] प्रत्युत्तर, जवाब  
 (भवि) ।  
 पडुप्पण पुं [प्रत्युत्पन्न] १ वर्तमान  
 पडुप्पन्न } काल (ठा ३, ४) । २ वि.  
 चार्त्तमानिक, वर्तमान काल में विद्यमान (ठा  
 १०; नग ८, ५; सम १३२; उवा) । ३  
 प्राप्त, तथ्य (ठा ४, २); 'न पडुप्पणो व से'  
 जहोचिओ आहारो' (सि २६१) । ४ उत्पन्न,

जात (ठा ४, २); 'हिति य पट्टुयत्रविण्णस-  
णमिं गंघविन्या उदाहरणं' (दसनि १) ।  
पट्टु न [दे] १ लघु पिठर, छोटी थाली । २  
वि. चित्रपत्र (दे ६, ६८) ।  
पट्टुयइअ वि [दे] तीक्ष्ण, तेज (दे ६, १४) ।  
पट्टुवत्ती स्त्री [दे] जवतिका, परदा (दे ६,  
२२) ।  
पट्टुह देखो पट्टुह । पट्टुह (हे ४, १५४  
टि) ।  
पट्टोअ वि [दे] बाल, लघु; छोटा (दे ६, ६) ।  
पट्टोच्छन्न वि [प्रत्ययच्छन्न] आच्छादित;  
आवृत; अट्टविहकम्मत्तमपडलपट्टोच्छन्ने (ज्वा) ।  
पट्टोयार सक [प्रत्युप + चारय] प्रतिकूल  
उपचार करना । पट्टोयारेति, पट्टोयारेह (भग  
१५—पत्र ६७६) । पट्टोयारेउ (भग १५—  
पत्र ६७१) । पट्टोयारे (पि १५५) । क्वक.  
पट्टोय ( ? यां ) रिज्जमाण, पट्टोयारेज्ज-  
माण (पि १६३; भग १५—पत्र ६७६) ।  
पट्टोयार पुं [दे] उपकरण (पिठ २८) ।  
पट्टोयार पुं [प्रत्युपचार] प्रतिकूल उपचार  
(भग १५—पत्र ६७१; ६७६) ।  
पट्टोयार पुं [प्रत्यवतार] १ अवतरण । २  
आविर्भाव; 'भरहस्स वासस्स केरिस्स आगार-  
भावपट्टोयारे होर्या' (भग ६, ७—पत्र २७६;  
७, ६—पत्र ३०५; औप) ।  
पट्टोयार पुं [पदावतार] किसी वस्तु का  
पदों में विचार के लिए अवतरण (ठा ४,  
१—पत्र १८८) ।  
पट्टोयार पुं [प्रत्युपकार] उपकार का उपकार  
(राज) ।  
पट्टोयार पुं [दे] १ सामग्री । २ परिकर,  
'पायस्स पट्टोयार' (श्रौव ३५२) ।  
पट्टोल पुं स्त्री [पट्टोल] लता-विशेष, परवल  
का गाछ (परण १—पत्र ३२) ।  
पट्टोहर न [दे] घर का पीछला आंगन (दे  
६, ३२; गा ३१३; काप्र २२४) ।  
पट्टु वि [दे] धवल, सफेद (दे ६, १) ।  
पट्टुस पुं [दे] गिरि-गुहा, पहाड़ की गुफा (दे  
६, २) ।  
पट्टुच्छी स्त्री [दे] भैंस, 'पट्टुच्छीखीर' (श्रौव  
८७) ।  
पट्टुथी स्त्री [दे] १ बहुत दुषवाली । २  
दोहनेवाली (दे ६, ७०) ।

पट्टुय पुं [दे] भैंसा, पाड़ा, गुजराती में  
'पाडो'; 'सो चैव इमो वसभो पट्टुयपरिहृणं  
सहइ' (महा) ।  
पट्टुला स्त्री [दे] चरण-धात, पाद-प्रहार (दे  
६, ८) ।  
पट्टुस वि [दे] सुसंयमित, अच्छी तरह से  
संयमित (दे ६, ६) ।  
पट्टुविअ वि [दे] समापित; समाप्त कराया  
हुआ (पड) ।  
पट्टुया स्त्री [दे] १ छोटी भैंस, पाड़ी । २  
छोटी गौ, बछिया (विपा १, २—पत्र २६) ।  
३ प्रथम-प्रसूता गौ । ४ नव-प्रसूता महिषी  
(वव ३) । पट्टुी स्त्री [दे] प्रथम-प्रसूता (दे  
६, १) ।  
पट्टुआ स्त्री [दे] चरण-धात, पाद-प्रहार  
(दे ६, ८) ।  
पट्टुह अक [क्षुम्] सुन्व होना । पट्टु-  
हइ (हे ४, १५४; कुमा) ।  
पट्ट सक [पठ्] १ पढ़ना; अभ्यास करना ।  
२ बोलना, कहना । पट्टइ (हे १, १६६;  
२३१) । कर्म. पट्टिअइ, पट्टिअइ (हे ३,  
१६०) । वक. पट्टंत (सुर १०, १०३) ।  
क्वक. पट्टिजंत, पट्टिजमाण (सुपा २६७;  
उप ५३० टी) । संक. पट्टित्ता (हे ४,  
२७१; पड), पट्टिअ, पट्टिअण (श्री) (हे  
४, २७१), पट्टि (अप) (पिग) । हेक.  
पट्टिउं (गा २; कुमा) । क. पट्टियव्व,  
पट्टियव्व (पंसू १; वज्जा ६) । प्रयो. पट्टावड  
(कुप्र १८२) ।  
पट्ट पुं [पठ्] भारतीय देश-विशेष (इक) ।  
पट्टग वि [पाठक] पढ़नेवाला (कप्प) ।  
पट्टण न [पठन] पाठ, अभ्यास (विसे  
१२८४; कप्प) ।  
पट्टम वि [प्रथम] १ पहला, आद्य (हे १,  
५५; कप्प; उवा; भग; कुमा; प्रासू ४८;  
६८) । २ नूतन, नया (दे) । ३ प्रवान; मुख्य  
(कप्प) । ४ करण न [करण] आत्मा का  
परिणाम-विशेष (पंचा ३) । ५ कसाय पुं  
[कपाय] कपाय-विशेष, अनन्तानुबन्धी  
कपाय (कम्मप) । ६ ठाणि, ७ ठाणि-वि  
[स्थानिन्] अत्युत्पन्न-बुद्धि, अनिष्णात  
(पंचा १६) । ८ पाउस पुं [प्रावृप्]   
आपाड़ मास (निचू १०) । ९ संमोसरणं न

[समवसरण] वर्ष-काल; 'विइयसमोसरणं  
, उदुवदं तं पट्टुव वासावासो गहो पट्टमसमो-  
सरणं भणइ' (निचू १) । १० सरय पुं  
[शरत्] मार्गशीर्ष मास (भग १५) ।  
११ सुरा स्त्री [सुरा] नया दारु, शराब (दे) ।  
पट्टमा स्त्री [प्रथमा] १ प्रतिपदा तिथि, पड़वा  
(सम २६) । २ व्याकरण-प्रसिद्ध पहली  
विभक्ति; 'एिहेसे पट्टमा होइ' (अण) ।  
पट्टमालिआ स्त्री [दे. प्रथमालिका] प्रथम  
भोजन (श्रौव ४७ भा; वर्म ३) ।  
पट्टमिल्लुअ वि [प्रथम] पहला, आद्य  
पट्टमिल्लुअ (भग; आ २८; सुपा ५७; पि  
पट्टमिल्लुग ४४६; ५६५; विसे १२२६;  
पट्टमुअ (णया १, ६—पत्र १५४;  
पट्टमेल्लुय वृह १; पउम ६२, ११; वण  
१६; सण) ।  
पट्टाइइ [श्री] नीचे देखो (नाट—चैत ८६) ।  
पट्टाव सक [पाठय] पढ़ाना । पट्टावेइ (प्राक  
६०) । संक. पट्टाविऊण, पट्टावेऊण (प्राक  
६१) । हेक. पट्टाविउं, पट्टावेउं (प्राक  
६१) । क. पट्टावणिज्ज, पट्टाविअव्व  
(प्राक ६१) ।  
पट्टावअ वि [पाठक] अध्यापक (प्राक ६०) ।  
पट्टावण न [पाठन] पढ़ाना (कुप्र ६०) ।  
पट्टाविअ वि [पाठित] पढ़ाया हुआ (सुपा  
४५३; कुप्र ६१) ।  
पट्टाविअवंत वि [पाठितवन्] जिसने  
पढ़ाया हो वह (प्राक ६१) ।  
पट्टाविउ १ वि [पाठयित्] अध्यापक (प्राक  
पट्टाविर ६०) ।  
पट्टि } देखो पठ = पठ् ।  
पट्टिअ }  
पट्टिअ वि [पठित] पढ़ा हुआ (कुमा; प्रासू  
१३८) ।  
पट्टिजंत } देखो पठ = पठ् ।  
पट्टिजमाण }  
पट्टिर वि [पठित्] पढ़नेवाला (सण) ।  
पट्टुक्क वि [प्रबोक्ति] भेंट के लिए उपत्या-  
पित (भवि) ।  
पट्टुम देखो पठम (हे १, ५५; नाट—विक्र  
२६) ।  
पट्टियव्व देखो पठ = पठ् ।  
पट्टे देखो पठाव । पट्टेइ (प्राक ६०) ।

पण देखो पंच (सुपा १; नव १०; कम्म २, ६; २६; ३१) । पणउइ छो [नवति] पंचानवे, नव्वे और पांच (पि ४४६) । तीस छीन [त्रिंशत्] पैतीस, तीस और पांच (श्रीप; कम्म ४, ५३; पि २७३; ४४५) । सुत्रइ देखो गणउइ (सुपा ६७) । रस त्रि. व. [दशत्] पनरह (सण) । वन्निय वि [वर्णिक] पांच रंग का (सुपा ४०२) । बीस छीन [विंशति] पचोस, बीस और पांच (सम ४४; नव १३; कम्म २) । बीसइ छो [विंशति] वही अर्थ (पि ४४५) । सट्टि छो [पट्टि] पैसठ, साठ और पांच (सम ७८; पि २७३) । सय न [शत] पांच सौ (दं ६) । सीइ छो [शीति] पचासी, अस्सी और पांच (कम्म २) । सुत्र न [सून] पांच हिंसा-त्याग (राज) ।

पण पुं [पण] १ शतं, होड़; 'लक्कपणेण जुउक्कावैतत्स' (महा) । २ प्रतिज्ञा (आक) । ३ धन । ४ विक्रय वस्तु, क्रयणक; 'तत्त्व विडम्पियक्क पणणणं' (तो ३) ।

पण पुं [प्रण] पन, प्रतिज्ञा (नाट—मालती १२४) ।

पण न [पञ्चक] १ पांच का समूह (पंच पणम ३, १६) । २ तप-विशेष, नीची तप (संबोध ५७) ।

पणअत्तिअ वि [दे] प्रकटित, व्यक्त किया हुआ (दे ६, ३०) ।

पणअन्न देखो पणपन्न (हे २, १७४ टि; राज) ।

पणइ छो [प्रणति] प्रणाम, नमस्कार (पउम ६६, ६६; सुर १२, १३३; कुमा) ।

पणइ वि [प्रणयिन्] १ प्रणयवाला, स्नेही, प्रेमी । २ पुं. पति, स्वामी (पाण्ड गडड ८३७) । ३ याचक, अर्थी, प्रार्थी (गडड २४६; २५१; सुर १, १०८) । ४ नृत्य, दास; 'वण्डराशोत्ति पणइलवो' (गडड ७६७) ।

पणइणी छो [प्रणयिनी] पत्नी, भार्या, प्रिया, जोरु (सुपा २१६) ।

पणइय वि [प्रणयिक, प्रणयिन्] देखो पणइ = प्रणयिन् (सण) ।

पणंगणा छो [पणाङ्गना] वेर्या, वारांगना (उप १०३१ टी; सुपा ४६०; कुप्र ५) ।

पणग न [पञ्चक] पांच का समूह (सुर ६, ११२; सुपा ६३६; जी ६; दं ३१; कम्म २, ११) ।

पणग पुं [दे. पनक] १ शैवाल, सेवार या सिवार, तृण-विशेष जो जल में उत्पन्न होता है (वृह ४; दस ८; परण १ खंदि) । २ कोई, वर्षा-काल में भूमि, काष्ठ आदि में उत्पन्न होने-वाला एक प्रकार का जल-मैल (ग्राचा; पडि; ठा ८—पत्र ४२६; कम्म) । ३ कदम-विशेष, सूक्ष्म पंक (वृह ६; नग ७, ६) । देखो पणय (दे) । मट्टिया, मत्तिया छो [मृत्तिका] नदी आदि के पूर के खतम होने पर रह जाती कोमल चिकनी मिट्टी (जीव १; परण १—पत्र २५) ।

पणञ्च अक [प्र + नृत्] नाचना, नृत्य करना । वड्. पणञ्चमाण (खाया १, ८—पत्र १३३; सुपा ४७२) । छो. णी (सुपा २४२) ।

पणञ्चण न [प्रनर्तन] नृत्य, नाच (सुपा १५४) ।

पणच्चिअ वि [प्रनृत्तित] नाचा हुआ, जिसका नाच हुआ हो वह (खाया १, १—पत्र २५) ।

पणच्चिअ वि [प्रनृत्त] नाचा हुआ, 'अन्नया रायपुरओ पराच्चिया देवत्ता' (महा; कुप्र १०) ।

पणच्चिअ वि [प्रनृत्तित] नचाया हुआ (भवि) ।

पणट्ट वि [प्रनट्ट] प्रकप से नाच को प्राप्त (सूत्र १, १, २; से ७, ८; सुर २, २४७; ३, ६६; भवि; उव) ।

पणट्ट वि [प्रणट्ट] परिगत (श्रीप) ।

पणपण देखो पणपन्न (कप्प १४७ टि) ।

पणपणइम देखो पणपन्नइम (कप्प १७४ टि; पि २७३) ।

पणपन्न छीन [दे. पञ्चपञ्चाशत्] पचपन, पचास और पांच (हे २, १७४; कप्प; सम ७२; कम्म ४, ५४; ५५; ति ५) ।

पणपन्नइम वि [दे. पञ्चपञ्चाश] पचपनवां-५५ वां (कप्प) ।

पणपन्निय देखो पणवन्निय (इक) ।

पणपन्निय पुं [पंचपन्नमिक] व्यन्तर देवों की एक जाति (पव १६४) ।

पणम सक [प्र + नम्] प्रणाम करना, नमन करना । पणमइ, पणमए (स ३४४; भग) । वड्. पणमंत (नण) । कवड्. पणमिजंत (सुपा ८८) । संठ्. पणमिअ, पणमिऊण, पणमिऊणं, पणमिआ, पणमित्तु (अभि ११८; प्राड; पि ५६०; नग; काल) ।

पणमण न [प्रणमन] प्रणाम, नमस्कार (उव; सुपा २७; ५६१) ।

पणमिअ देखो पणम ।

पणमिअ वि [प्रणत] १ तमां हुआ (नग; श्रीप) । २ जिसने नमने का प्रारम्भ किया हो वह (खाया १, १—पत्र ५) । ३ जिसको नमन किया गया हो वह; 'पणमियो अणेण राया' (स ७३०) ।

पणमिअ वि [प्रणमित] नमाया हुआ (भवि) ।

पणमिर वि [प्रणम] प्रणाम करनेवाला, नमनेवाला (कुमा; कुप्र ३५०; सण) ।

पणय सक [प्र + णी] १ स्नेह करना, प्रेम करना । २ प्रार्थना करना । वड्. पणअंत (से २, ६) ।

पणय वि [प्रणत] १ जिसको प्रणाम किया गया हो वह, 'नरणाहणयपयकमलं' (सुपा २४०) । २ जिसने नमस्कार किया हो वह; 'पणयप्रडिवक्कं' (सुर १, ११२; सुपा ३६१) । ३ प्राप्त (सुर १, ४, १) । ४ निम्न, नीचा (जीव ३; राय) ।

पणय पुं [प्रणय] १ स्नेह, प्रेम (खाया १, ६; महा; गा २७) । २ प्रार्थना (गडड) । ३ वंत वि [वत्] स्नेहवाला, प्रेमी (उप १३१) ।

पणय पुं [दे] पंक, कदम (दे ६, ७) ।

पणय पुं [दे. पनक] १ शैवाल, सेवार, तृण-विशेष । २ कोई, जल-मैल (श्रीप ३४६) । ३ सूक्ष्म कदम (परह १, ४) ।

पणयाळ वि [दे. पञ्चचत्वारिंश] पैता-लीसवां, ४५ वां (पउम ४५, ४६) ।

पणयाळ } छीन [दे. पञ्चचत्वारिंशत्]  
पणयाळीस } पैतालीस, चालीस और पांच, ४५ (सम ६६; कम्म २, २७; ति ३; भग; सम ६८; श्रीप; पि ४४५) ।

पणव देखो पणम । पणवइ (भवि) । पणवह  
(हे २, १६५) । वक्र. पणवंत (भवि) ।

पणव पुं [पणव] श्रांकार, 'ओ' श्रुतर (सिरि  
१२६) ।

पणव पुं [पणव] पट्ट, ढोल, वाद्य-विशेष  
(श्रौप; कम्प; श्रंत) ।

पणवणिय देखो पणवन्निय (श्रौप) ।

पणवण } देखो पणपन्न (पि २६५; २७३;  
पणवन्न } भाग हे २, १७४ टि) ।

पणवन्निय पुं [पणपन्निक] व्यन्तर देवों की  
एक जाति (परह १, ४) ।

पणविय देखो पणमिय = प्रणत (भवि) ।

पणवीसी स्त्री [पञ्चविंशतिका] पचीस का  
समूह (संवेव २५) ।

पणस पुं [पनस] वृक्ष-विशेष, कटहल या  
कटहर (पि २०८; नाट—मृच्छ २१८) ।

पणसुंदरी स्त्री [पणसुन्दरी] वेश्या (धर्मवि  
१२७) ।

पणाम सक [अर्पय] अर्पण करना, देने  
के लिए उपस्थित करना । पणामइ (हे ४,  
३६), 'वैदिश्रां य पणायण कल्लाणाई  
पणामइ' (सुपा ३६३) ।

पणाम सक [प्र + नमय] नमाना । पणामेइ  
(महा) ।

पणाम सक [उप + नी] उपस्थित करना ।  
पणामेइ (श्राकृ ७१) ।

पणाम पुं [प्रणास] नमस्कार, नमन (दे ७,  
६; भवि) ।

पणामणिआ स्त्री [दे] क्षीविपयक प्रणय  
(दे ६, ३०) ।

पणामय वि [अर्पक] देनेवाला (सूत्र १, २, २) ।

पणामय वि [प्रणामक] १ नमानेवाला ।  
२ शब्द आदि विषय (सूत्र १, २, २; २७) ।

पणामिअ वि [अर्पित] समर्पित, देने के  
लिए धरा हुआ (पाद्य; कुमा); 'अपणामि-  
यं पि गहिअं कुसुमसरेण महुमासलच्छीए पुहं'  
(हेका ५०) ।

पणामिअ वि [प्रणामित] नमाया हुआ  
(से ४, ३१; गा २२) ।

पणामिअ वि [प्रणमित] नत, नमा हुआ;  
'पणामिया सायर' (स ३१६) ।

पणायक } वि [प्रणायक] ले जानेवाला;  
पणायग } 'निन्वाणममणसगण्णायकाइ'  
(परह २, १; परह २, १ टी; वव १) ।

पणाल पुं [प्रणाल] मोरी, पानी आदि जाने  
का रास्ता (से १३, ५४; उर १, ५; ६) ।

पणालिआ स्त्री [प्रणालिका] १ परम्परा  
(सूत्र १, १३) । २ पानी जाने का रास्ता  
(कुमा) ।

पणाली स्त्री [प्रणाली] मोरी, पानी जाने का  
रास्ता (गउड) ।

पणाली स्त्री [प्रणाली] शरीर-प्रमाण लम्बी  
लाठी (परह १, ३—पत्र ५४) ।

पणास सक [प्र + नाशय] विनाश करना ।  
पणासेइ, पणासए (महा) ।

पणास पुं [प्रणाश] विनाश, उच्छेदन  
(आवम) ।

पणासण वि [प्रणाशन] विनाश करने-  
वाला; 'सव्वपावप्पणासणो' (पडि; कम्प) ।  
स्त्री. 'णी' (शा ४६) ।

पणासिय वि [प्रणाशित] जिसका विनाश  
किया गया हो वह (कम्प; भवि) ।

पणिअ वि [दे] प्रकट, व्यक्त (दे ६, ७) ।

पणिअ वि [प्रणीत] रचित (सूत्रनि ११२) ।

पणिअ न [पणित] १ वेचने योग्य वस्तु  
(दे १, ७४; ६, ७; णाया १, १) । २  
व्यवहार, लेन-देन, क्रय-विक्रय (भग १५;  
णाया १, ३—पत्र ६५) । ३ शत, होड़,  
एक तरह का जुआ (भास ६२) । 'भूमि,  
'भूमी स्त्री [°भूमि, °भूमी] १ अनायं

देश-विशेष, जहाँ भगवान् महावीर ने एक  
चौमासा बिताया था (राज; कम्प) । २ विक्रय  
वस्तु रखने का स्थान (भग १५) । 'साला स्त्री

[°शाला] हाट, दूकान (वृह २, निव्व १६) ।  
पणिअ न [पण्य] विक्रय वस्तु (सुपा २७५;  
श्रौप; श्राचा) । 'गिह, 'घर न [°गृह]

दूकान, हाट (निव्व १२; श्राचा २, २, २) ।  
'साला स्त्री [°शाला] हाट, दूकान (श्राचा) ।  
'वण पुं [°पण] दूकान, हाट (श्राचा) ।

पणिअ वि [प्रणीत] सुन्दर, मनोहर । 'भूमि  
स्त्री [°भूमि] मनोज्ञ भूमि (भग १५) ।  
पणिअट्ट वि [पणितार्थ] चोर (दस ७,  
३७) ।

पणिअसाला स्त्री [पण्यशाला] बखार, अन्न  
या माल रखने का घिरा हुआ स्थान, गोदाम  
(आचा २, २, २, १०) ।

पणिआ स्त्री [दे] करोटिका, सिरकी हड्डी,  
खोपड़ी (दे ६, ३) ।

पणिदि } वि [पञ्चेन्द्रिय] त्वक्, जीम;  
पणिदिय } नाक, श्रांख श्रौर कान इन पाँचों  
इन्द्रियोंवाला प्राणी (कम्म २; ४, १०; १८;  
१६) ।

पणिद्ध वि [प्रस्निग्ध] विशेष स्निग्ध (अणु  
२१५) ।

पणिधाण देखो पडिहाण (भमि १८६;  
नाट.—विक्र ७२) ।

पणिधि पुं स्त्री [प्रणिधि] माया, झल; 'पुणो  
पुणो पणिवि(? वी)ए हरिता उवहसे जण'  
(सम ५०) । देखो पणिहि ।

पणियत्थ वि [प्रणिवसित] पहना हुआ  
(श्रौप) ।

पणिलिअ वि [दे] हत, मारा हुआ (पड्) ।  
पणिवइअ वि [प्रणिपतित] नत, नमा हुआ;  
'पणिवइयवच्छला एं देवाणुप्पिया ! उत्तम-  
पुरिसा' (णाया १, १६—पत्र २१६; स ११;  
उप ७६८ टी) ।

पणिवइअ वि [प्रणिपतित] जिसको नमस्कार  
किया गया हो वह; 'नरपहहि पणिवइओ'  
'वीरो' (धर्मवि ३७) ।

पणिवय सक [प्रणि + पत्] नमन करना,  
वन्दन करना । पणिवयामि (कम्प; सार्धं  
६१) ।

पणिवाय पुं [प्रणिपात] वन्दन, नमस्कार  
(सुर ४, ६८; सुपा २८; २२२; महा) ।

पणिहा सक [प्रणि + धा] १ एकाग्र चिन्तन  
करना, ध्यान करना । २ अपेक्षा करना । ३  
अभिलाषा करना । ४ चेष्टा करना, प्रयत्न  
करना । संक्र. पणिहाय (णाया १, १०;  
भग १५) ।

पणिहाण न [प्रणिधान] १ एकाग्र ध्यान,  
मनो-नियोग, श्रवधान (उत्त १६, १४; स ८७;  
प्रामा) । २ प्रयोग, व्यापार, चेष्टा; 'तिविहे  
पणिहाणे परणत्ते; तं जहा—मणपणिहाणे,  
वयपणिहाणे, कायपणिहाणे' (ठा ३, १, ४,  
१; भग १८; उवा) । ३ अभिलाषा, कामना;

‘संकायाणारिणं सन्वारिणं वज्जेज्जा पणिहायव’  
(उत्त १६, १४)।

पणिहाय देखो पणिहा।

पणिहि पुंल्लो [प्रणिधि] १ एकाग्रता, श्रवधान  
(परह २, ५)। २ कामना, अभिलाष (स  
८७)। ३ पुं. चरपुरुष, दूत (परह १, ३;  
पात्र; सुर ३, ४; सुपा ४६२)। ४ वेष्टा,  
व्यापार (दसनि १)। ५ माया, कपट (आव  
४)। ६ व्यवस्थापन (राज)।

पणिहि पुंल्लो [प्रणिधि] वड़ा निधि (दस  
८, १)।

पणिहिय वि [प्रणिहित] १ प्रयुक्त, व्यापृत  
(दसनि ८)। २ व्यवस्थित (आव ४)।

पणीय वि [प्रणीत] १ निर्मित, कृत, रचित;  
‘वइसेसियं पणीयं’ (विसे २५०७; सुर १२,  
६२; सुपा २८; १६७)। २ स्निग्ध, घृत  
आदि स्नेह की प्रचुरतावाला; ‘विभूसा इत्थो-  
संसग्गी पणीयरसभोयणं’ (दस ८, ५७; उत्त  
१६, ७; ओष १५० भा; औप; वृह ५)। ३  
निरूपित, प्ररूपित, आख्यात (अणु; आव  
३)। ४ मनोज्ञ, सुन्दर (भग ५, ४)। ५  
सम्यग् आचरित (सूत्र १; ११)।

पणीहाण देखो पणिहाण (आत्म ८; हित  
१५)।

पणुल्ल देखो थणोल्ल। वहु. पणुल्लेमाण (पि  
२२४)।

पणुल्लिअ देखो पणोल्लिअ (पात्र; सुपा २४;  
प्रासू १६६)।

पणुवीस ल्लोन [पञ्चविंशति] संख्या-विशेष,  
पचीस, बीस और पांच। २. जिनकी संख्या  
पचीस हों वे (स १०६; पिं १०४; २७३)।

पणुवीसइमं वि [पञ्चविंशतितम] पचीसवां,  
२५ वां (विसे ३१२०)।

पणोल्ल सक [प्र + णुट्] १ प्रेरणा करना।  
२. फँकना। ३. नाश करना। पणोल्लइ  
(प्राप्र); ‘पावाइं कम्माइं पणोल्लयामो’ (उत्त  
१२, ४०)। कवकः पणोल्लिज्जमाणं (साया  
१, १; परह १, ३)। संकः पणोल्ल (सूत्र  
१, ८)।

पणोल्लण न [प्रणोदन] प्रेरणा (ठा ८; उप  
८ ३४१)।

पणोल्लय वि [प्रणोदक] प्रेरक (आचा)।

पणोल्लि वि [प्रणोदिन्] १ प्रेरणा करनेवाला।  
२ पुं. प्राचन दाड, वेल इत्यादि हाकने की  
लड़की (परह १, ३—पत्र ५४)।

पणोल्लिअ वि [प्रणोदित] प्रेरित (औप; पि  
२४४)।

पण्ण वि [प्रज्ञ] जानकार, दक्ष, निपुण (उत्त  
१, ८; सूत्र १, ६)।

पण्ण वि [प्राज्ञ] १ प्रज्ञावाला, बुद्धिमान्. दक्ष  
(हे १, ५६; उप ६२३)। २ वि. प्राज्ञ-  
सम्बन्धी (सूत्र २, १)।

पण्ण न [पर्ण] पत्र पत्ता, पत्तो (कुमा)।

पण्ण देखो पणिअ = परय (नाट)।

पण्ण ल्लोन [दे] पचास, ५०। ल्लो. °ण्णा  
(पड्)।

पण्ण देखो पंच, पंग (पि २७३; ४४०;  
४४५)। °रस वि. व. [°दशन्] पनरह,  
१५ (सम २६; उवा)। °रसम वि [°दश]  
पनरहवां (उवा)। °रसी ल्लो [°दशी] १  
पनरहवां। २ तियि-विशेष (पि २७३; कण्ण)।  
°रह देखो °रस (प्राप्र)। °रह वि [°दश]  
पनरहवां, १५ वां (प्राप्र)। देखो पत्र =  
पंच।

पण्ण वि [पर्ण] पर्ण-सम्बन्धी, पत्ते का,  
पत्ती से संबन्ध रखनेवाला (राज)।

पण्णं देखो पण्णा। °व वि [°वन्] प्रज्ञा-  
वाला (उप ६१२ टी)।

पण्णई [पन्नग] भगवान् धर्मनाथ की शासन-  
देवी (पव २७)।

पण्णग पुं [पन्नग] सर्प, साँप (उप ७२८  
टी)। °सिन् पुं [°शन] गहड़ पत्ती (पिण)।  
देखो पन्नय।

पण्णग वि [दे. पन्नक] दुर्गन्धी। °तिल पुं  
[°तिल] दुर्गन्धी तिल (राज)।

पण्णगि ल्लो [पञ्चपट्टि] पँसठ, साठ और  
पाँच, ६५ (कण्ण)।

पण्णत्त वि [प्रज्ञप्त] निरूपित, उपदिष्ट, कथित  
(औप; उवा; ठा ३, १; ४, १; २; विपा  
१, १; प्रासू १२१)। २ प्रणीत, रचित  
(आवम; चंद २०; भग ११, ११; औप)।

पण्णत्ति ल्लो [प्रज्ञप्ति] १ विद्यादेवी-विशेष  
(जं १)। २ जैन आगम ग्रंथ-विशेष; सूर्य-  
प्रज्ञप्ति आदि उपांग-ग्रंथ (ठा ३, १; ४, १)।

३ विद्या-विशेष (आचू १)। ४ प्रत्यय,  
प्रतिपादन (उवा; वव ३)। °खेवर्णा ल्लो  
[°क्षेपर्णा] कथा का एक भेद (ठा ४, २)।  
°पक्खेवर्णा ल्लो [°प्रक्षेपर्णी] कथा का एक  
भेद (राज)।

पण्णपण्णिय पुं [पण्णपर्णि] व्यन्तर देवां  
की एक जाति (इक)।

पण्णय देखो पण्णग (सं ४, ४)।

पण्णय सक [प्र + ज्ञापय्] प्ररूपण करना,  
उपदेश करना, प्रतिपादन करना। परणवेद,  
परणवेति (उवा; भग)। वहु. पण्णययंत  
पण्णवेमाण (भग; पि ५११)। क. पण्ण-  
वणिज्ज (इ ७)।

पण्णयग वि [प्रज्ञापक] प्ररूपक, प्रतिपादक  
(विसे ५४६)।

पण्णयण न [प्रज्ञापन] १ प्ररूपण, प्रति-  
पादन। २ शब्द, सिद्धान्त (विसे ८६४)।

पण्णयण वि [प्रज्ञापन] ज्ञापक, निरूपक  
(संबोध ५)।

पण्णयणा ल्लो [प्रज्ञापना] १ प्ररूपण, प्रति-  
पादन (साया १, ६; उवा)। २ एक जैन  
आगम ग्रंथ, ‘प्रज्ञापना’ सूत्र (भग)।

पण्णयणिज्ज देखो पण्णय।

पण्णयणी ल्लो [प्रज्ञापनी] भाषा-विशेष, अर्थ-  
बोधक भाषा (भग १०, ३)।

पण्णयण्ण ल्लोन [दे. पञ्चपञ्चाशत्] पच-  
पन, पचास और पाँच (दे ६, २७; पड्)।

पण्णयय देखो पण्णयग (विसे ५४७)।

पण्णययंत देखो पण्णय।

पण्णययि वि [प्रज्ञापित] प्रतिपादित, प्ररू-  
पित (अणु; उत्त २६)।

पण्णययत्तु वि [प्रज्ञापयित्] प्रतिपादक, प्ररू-  
पण करनेवाला (ठा ७)।

पण्णवेमाण देखो पण्णय।

पण्णा सक [प्र + ज्ञा] १ प्रकर्ष से जानना।  
२ अच्यो तरह जानना। कर्म. परणायति  
(भग)।

पण्णा देखो पण्ण (दे)।

पण्णा ल्लो [प्रज्ञा] मनुष्य-की दस अवस्थाओं  
में पाँचवीं अवस्था (तंडु १६)।

पण्णा ल्लो [प्रज्ञा] १ बुद्धि, मति (उप १५४;  
७२८ टी; निचू १)। २ ज्ञान (सूत्र १,

१२) । परिसह, परीसह पुं [परिपह, परीपह] १ बुद्धि का गवन करना । २ बुद्धि के अभाव में खेद न करना (भगवन्, न; पव ८६) । मय पुं [मद] बुद्धि का अभिमान (सुप्र. १, १३) । वंत वि [वत्] ज्ञानवान् (राज) ।  
 पण्णाम वि [प्रज्ञ] विद्वान् (पंचा १७, २७) ।  
 पण्णाम् देखो पन्नाम् परणाड्ड (दे ६, २६) ।  
 पण्णान न [प्रज्ञान] १ प्रकृत ज्ञान । २ सम्यग्-ज्ञान (सम ५१) । ३ आगम, शास्त्र (आचा) । व वि [वत्] १ ज्ञानवान् । २ शास्त्रज्ञ (आचा) ।  
 पण्णाराह (अप) वि. व. [पञ्चदशन] पनरह (पिन) ।  
 पण्णावीसा ली [पञ्चविंशति] पचीस, बीस और पाँच; २५ (पड्) ।  
 पण्णास लीन [दे. पञ्चाशत्] पचास, ५० (दे ६, २७; पड्; पि २७३; ४४५; कुमा) । देखो पन्नास ।  
 पण्णासग वि [पञ्चाशक] पचास वर्ष की उम्र का (तंदु १७) ।  
 पण्णवीस देखो पण्णवीस (स १४६) ।  
 पण्ह पुंत्री [प्रश्न] प्रश्न, प्रच्छा (हे १, ३५; कुमा) । ली. ण्ह (हे १, ३५) । (हे १; ३५) । वाहण न [वाहन] जैन मुनि-गण का एक कुल (ती ३८) । वागरण न [व्याकरण] ग्यारहवाँ जैन अंग-ग्रन्थ (परह २, ५; ठा १०; विपा १, १; सम १) । देखो पसिण ।  
 पण्हअ अक [प्र+स्तु] करना, टपकना; एकको परहप्रइ अणो (गा ४०६; ४६२ अ) ।  
 पण्हअ पुं [दे. प्रस्तव] १ स्तन-धारा; पण्हव स्तन से दूध का करना (दे ६, ३; पि २३१; राज; अंत ७; पड्) । २ करना, टपकना; 'दिट्ठिपरहव' (पिड ४८७) ।  
 पण्हव पुं [पहव] १ अन्तर्ग देश-विशेष । २ वि. उस देश का निवासी (परह १, १—पत्र १४) ।  
 पण्हवण न [प्रस्तवण] क्षरण, करना (विपा १, २)

पण्हविअ देखो पण्हुअ (दे ६, २५) ।  
 पण्ह देखो पण्ह ।  
 पण्ह पुंत्री [पारिणि] फीलों का अघोभाग, गुल्फ की नीचली हिस्सा; एडी (परह १, ३; दे ७; ६२) ।  
 पण्हिया ली [प्रश्निका] एडी, गुल्फ का अघोभाग; भैलित्तु परिहयाओ चरणो वित्थारिऊण वाहरिओ (चिइय ४८६) ।  
 पण्हुअ वि [प्रस्तुत] १ क्षरित; ऋण हुआ । २ जिसने करने का प्रारम्भ किया हो वह; 'परहण्यपयोहराओ' (पउम ७६, २०; हे २, ७५) ।  
 पण्हुइर वि [प्रस्तोत्] ऋतनेवाला, 'हत्थप्फेण जरगंवीवि परहप्रइ दोहअणुणेण । अवनोअणपरहइरि पुत्तम पुण्णेहि पाविहिंसि' (गा ४६२) ।  
 पण्होत्तर न [प्रश्नोत्तर] सवाल-जवाब (सुर १६, ४१; कप्प) ।  
 पतणु देखो पयणु (राज) ।  
 पतार सक [प्र + तारय्] ठगना । संक. पतारिअ (अभि १७१) ।  
 पतारग वि [प्रतारक] वक्कक, ठग (धमंसं १४७) ।  
 पतिण्ण वि [प्रतीर्ण] पार पहुँचा हुआ, पतिन्न निस्तीर्ण (राज; परह २, १—पत्र ६६) ।  
 पतुण्ण न [प्रतुन्न] बल्कल का बना हुआ पतुन्न वल (आचा २, ५, १, ७) ।  
 पतेरस वि [प्रत्रयोदश] प्रकृत तेरहवाँ ।  
 पतेलस वि [वास न वर्ष] १ प्रकृत तेरहवाँ वर्ष । २ प्रकृत तेरहवाँ वर्ष । ३ प्रस्थित तेरहवाँ वर्ष (आचा) ।  
 पत्त वि [प्राप्त] मिला हुआ, पाया हुआ (कप्प; सुर ४, ७०; सुपा ३५७; जी ४४; दे ४६; प्रासू ३१; १६२; १८२; गा २४१) । काल, चाल न [काल] १ चैत्य-विशेष (राज) । २ वि. अवसरोचित (स ४६०) ।  
 पत्त न [पत्र] १ पत्ती, पत्ता, दल, पण (कप्प; सुर १, ७२; ली १०; प्रासू ६२) । २ पक्ष पंख, पाँख (साया १, १—पत्र २४) । ३ जिसपर लिखा जाता है वह, कागज, पन्ना

(स ६२; सुर १, ७२; से २, १७३) ।  
 च्छेज्ज न [च्छेद्य] कला-विशेष (श्रीप; स ६५) । मंत वि [वंत्] पत्रवाला (साया १, १) । रह पुं [रथ] पत्ती (प्राय) । लेहा ली [लेखा] इन्दनादि से पत्र के आकृतिवाली रचना-विशेष, भूषा का एक प्रकार (अजि २८) । वल्ली ली [वली] १ पत्रवाली लता । २ मुह पर चन्दन आदि से की जाती पत्र-श्रेणी-मुल्य रचना (कुप्र ३६५) । विट न [वृन्त] पत्र का वन्धन (पि ५३) । विटिय वि [वृन्तक, वृन्तीय] श्रोत्रिय जन्तु-विशेष, पत्र वृत्त में उत्पन्न होता एक प्रकार का श्रोत्रिय जन्तु (परण १—पत्र ४५) । विच्छुय पुं [वृश्चिक] जीव-विशेष, एक तरह का वृश्चिक, चतुरिन्द्रिय जीवों की एक जाति (जीव १) । वेंट देखो विंट (पि ५३) । संगडिआ ली [शकटिका] पत्तों से भरी हुई गाड़ी (भग) । समिद्ध वि [समृद्ध] प्रभूत पत्तेवाला (पाम्र) । हार पुं [हार] श्रोत्रिय जन्तु-विशेष (परण १—पत्र ४५; उत ३६, १३८) । हार पुं [हार] पत्ती पर निर्वाह करनेवाला वानप्रस्थ (श्रीप) ।  
 पत्त न [पात्र] १ भाजन (कुमा; प्रासू ३६) । २ आचार, आश्रय, स्थान (कुमा) । ३ दान देने योग्य गुणी लोक (उप ६४८ टी; महा) । ४ लंगतार वत्तीस उपवास (संबोध ५८) । विंध पुं [वन्ध] पात्रों को बाँधने का कपड़ा (श्रीव ६६८) । देखो पाय = पात्र ।  
 पत्त वि [प्रात्त] प्रसारित (कप्प) ।  
 पत्तइअ वि [प्रत्ययित] विश्वस्त (भग) ।  
 पत्तइअ वि [पत्रकित] १ अल्प पत्रवाला । २ कुत्सित पत्रवाला (साया १, ७—पत्र ११६) ।  
 पत्तउर पुं [दे] वनस्वति-विशेष, एक प्रकार का गाछ (परण १—पत्र ३१) ।  
 पत्तच्छेज्ज न [पत्रच्छेद्य] बाण से पत्ती वेधने की कला (जं २ टी पत्र १३७) । २ नक्काशी का काम, खोदने का काम (आचा २, १२, १) ।  
 पत्तट्टु वि [दे. प्राप्तार्थ] १ बहु-शिक्षित, विद्वान्; अति कुशल (दे ६, ६८; सुर १,



८१; सुपा १२६; भग १४, १; पात्र)। २ समयें (जीवस २८५)।

पत्तट्ट वि [दे] सुन्दर, मनोहर (दे ६, ६८)।

पत्तण देखो पट्टण (राज)।

पत्तण न [दे. पत्त्रण] ? इयु-फलक, बाण का फलक। २ पुंल, बाण का मूल भाग (दे ६, ६४; गा १०००)।

पत्तणा स्त्री [दे. पत्त्रणा] ?—२ ऊपर देखो (गजड; से १५, ७३)। ३ पुंल में की जाती रचना-विशेष (से ७, ५२)।

पत्तणा स्त्री [प्रापणा] प्राप्ति (पंच ४)।

पत्तपसाइआ स्त्री [दे] पत्तियों की एक की पगड़ी, जिसे भील लोग पहनते हैं (दे ६, २)।

पत्तपिसालस न [दे] ऊपर देखो (दे ६, २)।

पत्तय न [पत्रक] एक प्रकार का नेम (ठा ४, ४)।

पत्तय देखो पत्त (महा)।

पत्तरक न [दे. प्रतरक] आनुपण-विशेष (पह २, ५—पत्र १४६)।

पत्तलं वि [दे] ? तीक्ष्ण, तेज (दे ६, १४), 'नयणाई समाणियपत्तलाइं

परपुरिसजीवहरणाइं।

असियसियाइं व मुद्धे खग्गां

इव कं न मारंति ?

(वज्जा ६०)। २ पत्तला, कृश (दे ६, १४; वज्जा ४६)।

पत्तल वि [पत्रल] ? पत्र-समुद्र, बहुत पत्ती-वाला (पात्र; से १, ६२; गा ५३२; ६३५; दे ६, १४)। २ पक्षमवाला (औप; जं २)।

पत्तल न [पत्र] पत्ती, पणं (हे २, १७३; प्रामा; सणं; हे ४, ३८७)।

पत्तलण न [पत्रलण] पत्र-समुद्र होना, पत्र-बहुल होना; 'वाजलियापरिसोणकुडंगपत्तलणमुलहसकेअ' (गा ६२६)।

पत्तली स्त्री [दे] कर-विशेष, एक प्रकार का राज-देय; 'गिरहह तदेत्तपत्तलिं ऋत्ति' (सुपा ४६३)।

पत्तहारय वि [पत्रहारक] पत्तों को देखने का काम करनेवाला (अणु १४६)।

पत्ताण सक [दे] पताना, मिदाना; 'पुच्छउ अणु कोवि जो जाणइ सो तुम्हह विवाउ पत्ताणइ' (भवि), पत्ताणहि (भवि)।

पत्तामोड पुंन [आमोटपत्र] तोड़ा हुआ पत्र, 'दन्ने य कुत्ते य पत्तामोडं च गेरहइ' (अंत ११)।

पत्ति स्त्री [प्राप्ति] लाभ (दे १, ४२; उप २२६; वेइय ८६४)।

पत्ति पुं [पत्ति] ? सेना-विशेष, जिसमें एक रथ, एक हाथी, तीन घोड़े और पांच पैदल हों। २ पैदल चलनेवाली सेना (उप ७२८ टी)।

पत्ति } सक [प्रति + इ] ? जानना। २  
पत्तिअ } विश्वास करना। ३ आश्रय करना।  
पत्तिअइ, पत्तियंति, पत्तिअसि, पत्तिअमि (से १३, ४४; पि ४८७; से ११, ६०; भग)। पत्तिएजा, पत्तिअ, पत्तिहि, पत्तिसु (राय; गा २१६; २२६; पि ४८७)। वक्र. पत्तिअंत, पत्तियमाण (गा २१६, ६७८; आवा २, २, २, १०)। संक. पडियच्च, पत्तियाइत्ता (सूअ १, ६, २७; उत २६; ?)।

पत्तिअ वि [पत्तिअ] संजात-पत्र, जिसमें पत्र उत्पन्न हुए हो वह (खामा १, ७; ११—पत्र १७१)।

पत्तिअ वि [प्रतीति, प्रत्ययित] प्रतीति-वाला, विश्वस्त (ठा ६—पत्र ३५५; कप्प; कस)।

पत्तिअ न [प्रीतिक] प्रीति, स्नेह (ठा ४, ३; ठा ६—पत्र ३५५)।

पत्तिअ पुंन [प्रत्यय] प्रत्यय, विश्वास (ठा ४, ३—पत्र २३५; धर्म २)।

पत्तिअ न [पत्रिक] मरकत-पत्र (कप्प)।

पत्तिआ स्त्री [पत्रिका] पत्र, पणं, पत्ती (कुमा)।

पत्तिआअ देखो पत्तिअ = प्रति + इ। पत्तिआअइ (प्राक ७५), पत्तिआअंति (पि ४८७)।

पत्तिआव सक [प्रति + आयय] विश्वास कराना, प्रतीति कराना। पत्तिआवेइ (भास २३)।

पत्तिग देखो पत्तिअ = श्रेतिक (पंचा ७, १०)।

पत्तिज देखो पत्तिअ = प्रति + इ। पत्तिजसि, पत्तिजामि (पि ४८७)।

पत्तिज्जाव देखो पत्तिआव। पत्तिज्जावइ (सुपा ३०२)। पत्तिज्जावमि (धर्मवि १३४)।

पत्तिसमिद्ध वि [दे] तीक्ष्ण (दे ६, १४)।

पत्ती स्त्री [दे] पत्तों की बनी हुई एक तरह की पगड़ी जिसे भील लोग सिर पर पहनते हैं (दे ६, २)।

पत्ती स्त्री [पत्ती] स्त्री, नार्थी (उप पृ १६३; श्राप ६६; महा; पात्र)।

पत्ती स्त्री [पत्ती] भाजन, पात्र (उप २२२; महा; धर्मवि १२६)।

पत्तुं देखो पाव = प्र + श्राप्।

पत्तुयगद (शौ) वि [प्रत्युपगत] ? सामने गया हुआ। २ वापस गया हुआ (नाट.—विक्र २३)।

पत्तेअ } न [प्रत्येक] ? हरएक, एक एक  
पत्तेग } (हे २, १०; कुमा; मिचू १; पि ३४६)। २ एक की तरफ, एक के सामने;

'पत्तेयं पत्तेयं वणसंडपरिक्खितायो' (जीव ३)। ३ न. कर्म-विशेष, जिसके उदय से एक जीव का एक अलग शरीर होता है; 'पत्तेयतणु पत्तेउदएण' (कम्म १, ५०)। ४ पुंलक पुंलक,

अलग अलग (कम्म १, ५०)। ५ पुं. वह जीव जिसका शरीर अलग हो, एक स्वतन्त्र शरीरवाला जीव; 'साहारणपत्तेया वणस्सइ-

जीवा इहा सुए भणिया' (जी ८)। 'णाम न [नामन्] देखो ऊपर का तीसरा अर्थ (राज)। 'निगोयय पुं [निगोदक] जीव-विशेष (कम्म ४, ८२)। 'बुद्ध पुं [बुद्ध] अनित्यतादि भावना के कारणभूत किसी एक

वस्तु से परमायं का ज्ञान जितको उत्पन्न हुआ हो ऐसा जैन मुनि (महा; नव ४३)। 'बुद्धसिद्ध पुं [बुद्धसिद्ध] प्रत्येकबुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त जीव (धर्म २)।

'रस वि [रस] विभिन्न रसवाला (ठा ४, ४)। 'सरीर वि [शरीर] ? विभिन्न शरीरवाला; 'पत्तेयसरीराणं तह हंति' सरीर-संवाया' (पंच ३)। २ न. कर्म-विशेष, जिसके उदय से एक जीव का एक विभिन्न शरीर

होता है (परह १, १)। °शरीरनामन् न  
[°शरीरनामन्] वही पूर्वोक्त अर्थ (सम  
६७)।

पत्तय वि [प्रत्येक] वाङ्मय कारण (एहि  
१३०, १३१ टी)।

पत्थ सक [प्र + अर्थय] १ प्रार्थना करना।  
२ अभिलाषा करना। ३ अटकाना, रोकना।  
पत्थेइ, पत्थेति (उव; औप)। कर्म, पत्थिजसि  
(महा)। वक्र. पत्थंत, पत्थितं, पत्थेअमाण  
(नाट—मालवि २५; सुपा २१३; प्रासू  
१२०); 'कामे पत्थेमाणा अकामा जंति  
दुग्गइ' (उप ३५७ टी)। कवक. पत्थिज्जंत,  
पत्थिज्जमाण (गा ४००; सुर १, २०; से  
३, ३३; कप्प)। कृ. पत्थ, पत्थणिज्ज,  
पत्थेयञ्व (सुपा ३७०; सुर १, ११६; सुपा  
१४८; परह २, ४)।

पत्थ पुं [पार्थ] १ अजुंत, मध्यम; पारइव  
(स ६१२; वेणी १२६; कुमा)। २ पाञ्चाल  
देश के एक राजा का नाम (पउम ३७, ८)।  
३ भद्रिपुर नगर का एक राजा (सुपा  
६२६)।

पत्थ पुं [प्रार्थ] १ प्रार्थन, प्रार्थना (राय)।  
२ दो दिनों का उपवास (संबोध ५८)।

पत्थ देखो पच्छ = पथ्य (गा ८१४; पउम  
१७, ६४; राज)।

पत्थ देखो पत्थ = प्र + अर्थय।

पत्थ पुं [प्रस्थ] १ कुडव का एक परिमाण  
(बृह ३; जीवस ८८; तंदु २६)। २ सेतिका,  
एक कुडव का परिमाण (उप पृ ६६);  
'पत्थगा उ जे पुरा आसी हीणमाणा उ तेधुरा'  
(वव १)।

पत्थंत देखो पत्थ = प्र + अर्थय।

पत्थंत देखो पत्था।

पत्थना देखो पत्थय (राज)।

पत्थण्ड पुं [प्रस्तर] १ रचना-विशेषवाला  
समूह (ठा ३, ४—पत्र १७६)। २ भवनों  
के बीच का अंतराल; भाग (परण २; सम  
२५)।

पत्थण्ड वि [प्रस्तृत] १ विछाया हुआ। २  
फैला हुआ (भग ६, ८)।

पत्थण न [प्रार्थन] प्रार्थना (महा; भवि)।

पत्थणया } ली [प्रार्थना] १ अभिलाषा,  
पत्थणा } वाङ्मय (भाव ४)। २ याचना;  
मांग। ३ विज्ञप्ति, निवेदन (भग १२, ५;  
सुर १, २; सुपा २६६; प्रासू २१)।

पत्थय देखो पत्थ = पथ्य (गाया १, १)।

पत्थय वि [प्रार्थक] अभिलाषा करनेवाला  
(सूत्र १, २, २, १६; स २५३)।

पत्थय देखो पत्थ = प्रत्य (उप १७६ टी;  
औप)।

पत्थयण न [पथ्यदन्] शम्बल, पायेय, मार्ग  
में खाने का सुराक, कलेवा (गाया १, १५;  
स १३०; उर ८, ७; सुपा ६२४)।

पत्थर सक [प्र + स्तृ] १ विछाना। २  
फैलाना। संक्र. पत्थरेत्ता (कस; ठा ६)।

पत्थर पुं [प्रस्तर] पत्थर, पापाण (औप;  
उव; पउम १७, ३६; सिरि ३३२);

'पत्थरेणाहृशो कीवो पत्थरं उवकुमिच्छई'  
मिगारिओ सरं पप्प सत्पत्ति विमग्गई'  
(सुर ६, २०७)।

पत्थर न [दे] पाद-ताडन, लात (पड)।

पत्थर देखो पत्थार (प्राप्र; संक्षि २)।

पत्थरण न [प्रस्तरण] विछौना, 'खट्टापत्थर-  
णयं तथा-एगं' (धम्मत्रि १४७)।

पत्थरभल्लिअ न [दे] कोलाहल करना (दे ६,  
३६)।

पत्थरा ली [दे] चरण-घात; लात (दे ६,  
८)।

पत्थरिअ पुं [दे] पल्लव, कोपल (दे ६, २०)।

पत्थरिअ वि [प्रस्तृत] विछाया हुआ,  
'पत्थरिअं अत्थुअं' (पाप्र)।

पत्थय देखो पत्थाव (हे १, ६८; कुमा; पउम  
५, २१६)।

पत्था अक [प्र + स्था] प्रस्थान करना,  
प्रवास करना। वक्र. पत्थंत (से ३, ५७)।

पत्थाण न [प्रस्थान] प्रयाण, गमन (अभि  
८१; अजि ६)।

पत्थार पुं [प्रस्तर] १ विस्तार (उवर ६६)।

२ वृणवन। ३ पल्लवादि-निर्मित, शय्या। ४

पिगल-प्रसिद्ध प्रक्रिया-विशेष (प्राप्र)। ५  
प्रायश्चित्त की रचना-विशेष (ठा ६—पत्र  
३७१; कस)। ६ विनाश (पिड ५०१;  
५११)।

पत्थारी-ली [दे] १ निकर, समूह (दे ६,  
६६)। २ शय्या; विछौना, गुजराती में  
'पथारी' (दे ६, ६६; पाप्र; सुपा ३२०)।

पत्थाव सक [प्र + स्तावय] प्रारंभ  
करना। वक्र. पत्थावअंत (हास्य १२२)।

पत्थाव पुं [प्रस्ताव] १ श्रवसर। २ प्रसंग,  
प्रकरण (हे १, ६८; कुमा)।

पत्थिअ वि [प्रस्थित] १ जिसने प्रयाण  
किया हो वह (से २, १६; सुर ४, १६८)।

२ न. प्रस्थान, गति, चाल (अजि ६)।

पत्थिअ वि [प्रार्थित] १ जिसके पास प्रार्थना  
की गई हो वह। २ जिस चीज की प्रार्थना

की गई हो वह (भग; सुर ६, १८; १६,  
६; उव)।

पत्थिअ वि [दे] शीघ्र, जल्दी करनेवाला (दे  
६, १०)।

पत्थिअ वि [प्रार्थक] प्रार्थी, प्रार्थना करने-  
वाला (उव)।

पत्थिअ वि [प्रार्थित] विशेष आस्थावाला,  
प्रकृष्ट श्रद्धावाला (उव)।

पत्थिअ° ली [दे] वांस का बना हुआ  
पत्थिआ } भाजन-विशेष (औप ४७६)।

°पिडग, °पिडय न [°पिटक] वांस का  
बना हुआ भाजन-विशेष (विपा १, ३)।

पत्थिद देखो पत्थिअ = प्रस्थित, प्रार्थित  
(प्राक्र २५)।

पत्थिव पुं [पार्थिव] १ राजा, नरेश (गाया  
१, १६; पाप्र)। २ वि. पृथिवी का विकार  
(राजा)।

पत्थी ली [दे. पात्री] पात्र, भाजन; 'अव-  
कखोरपत्थि व माउआ मह पईं विलुपंति'  
(गा २४० अ)।

पत्थीण न [दे] १ स्थूल वक्र, मोटा कपड़ा।  
२ वि. स्थूल, मोटा (दे ६, ११)।

पत्थुय वि [प्रस्तुत] १ प्रकरण-प्राप्त, प्राकर-  
णिक (सुर ३, १६६; महा)। २ प्राप्त,  
लब्ध (सूत्र १, ४, १, १७)।

पत्थुर देखो पत्थर = प्र + स्तृ। संक्र. पत्थु-  
रेत्ता (कस)।

पत्थेअमाण }  
पत्थंत } देखो पत्थ = प्र + अर्थय।  
पत्थेमाण }  
पत्थेयञ्व }

पत्थोड वि [प्रस्तोतृ] १ प्रस्ताव करनेवाला।  
२ प्रवर्तक। त्री. रथोई (परह १, ३—  
पत्र ४२)।

पथम (दे) देखो पदम (पि १६०)।

पद देखो पय = पद (भग; त्वज्ज १५; हे ४,  
२७०; परह २, १; नाट—शकु ८१)।

पदअ सक [गम्] जाना, गमन करना।  
पदग्रह (हे ४, १६२)। पदग्रति (कुमा)।

पदंसिअ वि [प्रदर्शित] दिखलाया हुआ,  
वतलाया हुआ (आ ३०)।

पदक्खिण वि [प्रदक्षिण] १ जिसने दक्षिण  
की तरफ से लेकर मण्डलाकार भ्रमण किया  
हो वह। २ न. दक्षिणावर्त भ्रमण; 'पदक्खि-  
णोकरअंतो भट्टारं' (प्रथी ३५)। देखो  
पदाहिण।

पदक्खिण सक [प्रदक्षिणय] प्रदक्षिणा  
करना, दक्षिण से लेकर मण्डलाकार भ्रमण  
करना। हेऊ. पदक्खिणोउं (पउम ४८,  
१११)।

पदक्खिणा त्री [प्रदक्षिणा] दक्षिण की  
ओर से मण्डलाकार भ्रमण (नाट—चैत  
३८)।

पदण न [पदन] प्रत्यायन, प्रतीति करना  
(उप ८८३)।

पदण (श्री) न [पतन] निरता (नाट—  
मालती ३७)।

पदम (श्री) देखो पउम (नाट—मृच्छ १३६)।

पदय देखो पयय = पदग, पदक, पता, पतंग  
(इक)।

पदरिसिय देखो पदंसिअ (मवि)।

पदहण न [प्रदहन] संताप, गरमी (कुमा)।

पदाइ वि [प्रदायिन्] देनेवाला (नाट—  
विक्र ८)।

पदान न [प्रदान] दान, वितरण (श्रौप;  
अभि, ४५)।

पदादि (श्री) पुं [पदाति] पैदल चलनेवाला  
सैनिक (प्रथी १७; नाट—वेणी; ६६)।

पदायस वि [प्रदायक] देनेवाला (विसे  
३२००)।

पदाव देखो पयाव (गा ३२६)।

पदाहिण वि [प्रदक्षिण] प्रकृत दक्षिण,  
प्रकर्ष से दक्षिण दिशा में स्थित (जीव ३)।  
देखो पदक्खिणं।

पदिकिदि (श्री) देखो पडिकिदि (मा १०;  
नाट—विक्र २१)।

पदित्त देखो पलित्त (राज)।

पदिस° त्री [प्रदिश] विदिशा, ईशान आदि  
कोण; 'तसंति पाणा पदिसो दिसाणु य'  
(आचा)।

पदिस्सा देखो पदेक्ख।

पदीव सक [प्र + दीपय] १ जलाना। २  
प्रकाश करना। पदीवेसि (पि २४४)। वहु.  
पदीवेत्त (पउम १०२, १०)।

पदीव देखो पईय = प्रदीप (नाट—मृच्छ  
३०)।

पदीविआ त्री [प्रदीपिका] छोटा दिया  
(नाट—मृच्छ ५१)।

पदुग्ग पुंन [प्रदुग्ग] कोट, किला (आचा,  
२, १०, २)।

पदुट्ट वि [प्रट्टिट्ट, प्रदुट्ट] विशेष द्वेष को  
प्राप्त (उत्त ३२; वृह ३)।

पदुब्भेइय न [पदोब्भेदक] पद-विभाग और  
शब्दावै मात्र का पारायण (राज)।

पदूमिय वि [प्रदावित, प्रदून] अत्यन्त  
पीड़ित (वृह ३)।

पदूस सक [प्र + द्विष्] द्वेष करना।  
पदूसंति (पंचा २, ३५)।

पदूसणया त्री [प्रद्वेषणा, प्रदूषणा] द्वेष,  
मात्सर्य (उप ४८६)।

पदेक्ख सक [प्र + दृश्] प्रकर्ष से देखना।  
पदेक्खइ (मवि)। संकृ. 'पदिस्सा य दिस्सा  
वयमाणो' (भग १८, ८; पि ३३४)।

पदेस देखो पएस = प्रदेश (भग)।

पदेस पुं [प्रद्वेष] द्वेष (वमंसं ६७)।

पदेसिअ वि [प्रदेशित] प्ररूपित, प्रतिपादित  
(आचा)।

पदोस देखो पओस = दे, प्रद्वेष (अंत १३;  
अनिच् १)।

पदोस देखो पओस = प्रदोष (राज)।

पदो न [दे] १ ग्राम-स्थान (दे ६, १)। २  
छोटा गाँव (पाय)।

पद'न [पय] श्लोक, वृत्त, काव्य (प्राकृ  
२६)।

पदेस देखो पदेस = प्रद्वेष (सूत्र १, १६, ३)।

पदइ त्री [पद्वति] १ मार्ग, रास्ता (सुपा  
१८६)। २ पंक्ति, श्रेणी (ठा २, ४)। ३  
परिपाटी, क्रम (भावम)। ४ प्रक्रिया; प्रकरण  
(वज्जा २)।

पदंस पुं [प्रध्वंस] ध्वंस, नाश। 'भाय पुं  
[भाय] अभाव-विशेष, वस्तु के नाश होने  
पर उसका जो अभाव होता है वह (विसे  
१८३७)।

पदर वि [दे] ऋजु, सरल, सीधा (दे ६,  
१०)। २ शीघ्र गुजरती में 'पाघटं', 'पदर-  
परिह मुइउ पचारेइ' (सिदि ४३५)।

पदरुल वि [दे] दोनों पारकों में अप्रवृत्त  
(पइ)।

पदरार वि [दे] जिसका पूँछ कट गया हो वह,  
पूँछ-कटा (दे ६, १३)।

पधाइय देखो पधाविय (मवि)।

पधाण देखो पहाण (नाट—मृच्छ २०५)।

पधार देखो पहार = प्र + धारय। भुका-  
पधारय्य (श्रौप; णाय १, २—पत्र ८८)।

पधाव सक [प्र + धाव] दौड़ना, अधिक  
वेग से जाना। संकृ. पधाविअ (नाट)।

पधावण न [प्रधावन] १ दौड़, वेग से  
गमन। २ कार्य की शीघ्र सिद्धि (आ १)।  
३ प्रसालन (धमंसं १०७८)।

पधाविअ वि [प्रधावित] १ दौड़ा हुआ  
(महा' परह १, ४)। २ गति-रहित (राज)।

पधाविर वि [प्रधावित्] दौड़नेवाला (आ  
२८)।

पधूवण न [प्रधूपन] १ घुप देना। २ एक  
प्रकार का आलेपन द्रव्य (कस)।

पधूविय वि [प्रधूपित] जिसको घुप दिया  
गया हो वह (राज)।

पधोअ सक [प्र + धाव] धोना। संकृ.  
पधोइत्ता (आचा २, १, ६, ३)।

पधोअ वि [प्रधौत] धोना-हुआ (श्रौप)।

पधोव सक [प्र + धाव] धोना। पधोवेति  
(पि ४८२)।

पन देखो पंच । ०, ०रस वि. व. [०दशान्] पनरह, दस और पांच, १५ (कम्म १; ४, ५२, ६८; जो २५) ।  
 पनय (पे, लुपे) देखो पणय = प्रणय (हे ४, ३२६) ।  
 पन्न देखो पण्य = परण (सुपा ३३८; कुप्र ४०८) ।  
 पन्न देखो पण्य = दे (भग; कम्म ४, ५४) ।  
 पन्न देखो पण्य = प्रज्ञ (आचा; कुप्र ४०८) ।  
 पन्न वि [प्राज्ञ] १ पंडित, जानकार, विद्वान् (ठा ७; उप १५१; धर्मसं ४५२) । २ वि. प्रज्ञ-संबन्धी (सूत्र २, १, ५६) ।  
 पन्न देखो पंच । ०, ०रस वि. व. [०दशान्] पनरह, १५ (दं २२; सम २६; भग; सण) । ०रस, ०रसम वि [०दश] पनरहवां, १५ वां (सुर १५, २५०; पउम १५, १००) । ०रसी वी [०दशी] १ पनरहवां । २ पनरहवां तिथि (कप्प) ।  
 पन्न देखो पणिअ = परण (उप १०३१ टी) ।  
 पन्नगणा वी [पण्याङ्गना] केश्या, वाराङ्गना (उप १०३१ टी) ।  
 पन्नग देखो पण्यग = पन्नग (विपा १, ७; सुर २, २३८) ।  
 पन्नट्टि देखो पण्यट्टि (कप्प) ।  
 पन्नत्त देखो पण्यत्त (खाया १, १; भग; सम ?) ।  
 पन्नत्तरि वी [पञ्चसप्रति] पचहत्तर, ७५ (सम ८५; ति ३) ।  
 पन्नत्ति देखो पण्यत्ति (सुपा १५३; संति ५; महा) । ५ प्रकृत ज्ञान । जिससे प्रख्यापण किया जाय वह (तंडु ५४) । ७ पांचवां श्रंग-ग्रन्थ, भगवतीसूत्र (श्रावक ३३३) ।  
 पन्नत्तु वि [प्रज्ञापयित्] आख्याता, प्रतिपादक (पि ३६०) ।  
 पन्नपत्तिया वी [प्रज्ञप्रत्यया] देखो पुन्नपत्तिया (कप्प) ।  
 पन्नपन्नइम देखो पणपन्नइम (पि ४४६) ।  
 पन्नय देखो पण्यग (पात्र) । ०रिड पुं [०रिपु] गहड़ पत्ती (पात्र) ।  
 पन्नया वी [पन्नगा] भगवान् धर्मनायकी की शासन-देवी (संति १०) ।

पन्नय देखो पण्यय । पन्नवेइ (उव) । कर्म. पन्नविजइ (उव) । वक्र. पन्नययंत (सम्म १३४) । संक्र. पन्नवेऊणं (पि ५८५) ।  
 पन्नयग वि [प्रज्ञापक] प्रतिपादक, प्रख्याक (कम्म ५, ८५ टी) ।  
 पन्नयण देखो पण्ययण (सुपा २६६) ।  
 पन्नयणा देखो पण्ययणा (भग; परण १; ठा ३, ४) ।  
 पन्नयय देखो पण्ययग (सम्म १६) ।  
 पन्नययंत देखो पन्नय ।  
 पन्ना देखो पण्या = प्रज्ञा (आचा; ठा ४, १; १०) ।  
 पन्ना देखो पण्या = दे (पव ५०) ।  
 पन्नाड सक [मृद्] मर्दन करना । पन्नाडइ (हे ४, १२६) ।  
 पन्नाडिअ वि [मृदित] जिनका मर्दन किया गया हो वह (पात्र; कुमा) ।  
 पन्नाण देखो पण्यण (आचा; पि ६०१) ।  
 पन्नारस (अप) वि. व. [पञ्चदशान्] पनरह, १५ (भवि) ।  
 पन्नास देखो पण्यसास (सम ७०; कुमा) । वी. ०सा (कप्प) । ०इम वि [०तम] पचासवां, ५० वां; (पउम ५०, २३) ।  
 पन्ह देखो पण्ह (कप्प) ।  
 पन्हु (अप) देखो पण्हअ = दे. प्रस्तव (भवि) ।  
 पपंच देखो पपंच (सुपा २३५) ।  
 पपलीण वि [प्रपलायित] भागा हुआ (पि ३४६; ३६७; नाट—मृच्छ. ५८) ।  
 पपिआमह पुं [प्रपितामह] १ ब्रह्मा, विधाता (राज) । २ पितामह का पिता, परदादा (धर्मसं १४६) ।  
 पपुत्त पुं [प्रपुत्र] पौत्र, पुत्र का पुत्र, पोता (सुपा ४०७) ।  
 पपुत्त पुं [प्रपौत्र] पौत्र का पुत्र; पोते पपोत्त का पुत्र, प्रपोता (विसे ८६२; राज) ।  
 पप्य सक [प्र + आप्] प्राप्त करना । पप्योइ, पप्योति (पि ५०४; उत १४, १४) । पप्योदि (शौ) (पि ५०४) । संक्र. पप्य (परण १७; श्रौव ५५; विसे ५५१) । क. पप्य (विसे २६८७) ।  
 पप्यग न [दे. पर्यक] वनस्पति-विशेष (सूत्र २, २, ६) ।

पप्यड पुं [पर्यट] १ पापड़, मूंग या पप्यडग उद की बहुत पतली एक प्रकार की रोटी (पव ३७; भवि) । २ पापड़ के आकारवाला शुष्क मृत्खण्ड (निव्व १) । ०पायय पुं [०पाचक] नरकावास-विशेष (दिवेन्द्र ३०) । ०मोदय पुं [०मोदक] एक प्रकार की मिठ वस्तु (परण १७—पव ५३३) ।  
 पप्यडिया वी [पर्यटिका] तिल आदि की बनी हुई एक प्रकार की लाद्य वस्तु (परण १; पिड ५५६) ।  
 पप्यल देखो पप्यड (नाट—विक्र २१) ।  
 पप्योअ पुं [दे] चातक पत्ती, पपीहा या पपीहरा (दे ६, १२) ।  
 पप्युअ वि [प्रप्लुत] १ जलाद्र, पानी से भीजा हुआ (परह १, १; खाया १, ८) । २ व्याप्त; 'धपप्युयवज्जयाइं च' (पव ४ टी) । ३ न. कूदना, लांघना (गउड १२८) ।  
 पप्योइ } देखो पप्य ।  
 पप्योति }  
 पप्यदग न [प्रस्पन्दन] प्रचलन, फरकना (राज) ।  
 पप्यड पुं [दे] अग्नि-विशेष (दे ६, ६) ।  
 पप्यडिअ वि [दे] प्रतिफलित (दे ६, २२) ।  
 पप्युअ वि [दे] १ दीर्घ, लम्बा । २ उद्दीयमान, उड़ता (दे ६, ६४) ।  
 पप्युअ अक [प्र + स्फुट्] १ खिलना । २ फूटना । पप्युअइ (प्राक्र ७४) ।  
 पप्युडिअ पुं [प्रस्फुटित] नरकावास-विशेष (दिवेन्द्र २६) ।  
 पप्युय देखो पप्युअ; 'वाहपप्युयच्छो' (सुख २, २६) ।  
 पप्युर अक [प्र + स्फुर] १ फरकना, खिलना । २ कांपना । पप्युरइ (से १५, ७७; गा ६४७) ।  
 पप्युरिअ वि [प्रस्फुरित] फरका हुआ (दे ६, १६) ।  
 पप्युअ अक [प्र + फुल्ल] विकसना । वक्र. पप्युअंत (रंभा) ।  
 पप्युअ वि [प्रफुल्ल] विकसित, खिला हुआ (खाया १, १३; उप पृ ११४; पउम ३, ६६; सुर २, ७६; पड; गा ६३६; ६७०);

इय नरिएण रात्रंणी पफुल्लविलोअणा जाआ  
(काप्र १६१)।

पफुल्लिअ वि [प्रफुल्लित] ऊपर देखो (सम्मत्त  
१८६; नवि)।

पफुल्लिआ की [प्रफुल्लिका] देखो उफु-  
ल्लिआ (गा १२६अ)।

पफुल्लिसिय न [प्रसुष्ट] उत्तम स्वयं (राय  
१८)।

पफोड देखो पफुट्ट। पफोडड, फफोडड  
(वात्वा १४३)।

पफोड सक [प्र + स्फोटय्] १ नाड़ना,  
भाड़कर गिराना। २ आस्फालन करना। ३  
प्रलेपण करना। पफोडड (गा ४३३)।  
पफोडे (उत्त २६, २४) वहु. पफोडडंत,  
पफोडडयंत, पफोडेमाण (गा १४५, पि  
४६१; ठा ६)। संक. 'पफोडेऊण सेसयं  
कम्म' (आठ ६७)।

पफोडण न [प्रफोटन] १ नाड़ना, प्रकट  
घनन (शोध ना १६३)। २ आस्फोटन,  
आस्फालन (परह २, ५—पत्र १४८; पिड  
२६३)।

पफोडणा की [प्रफोटना] ऊपर देखो  
(शोध २६६; उत्त २६, २६)।

पफोडिअ वि [दे. प्रस्फोटित] निष्कण्डित,  
भाड़ कर गिराया हुआ (दे ६, २७. पात्र);  
'पफोडिअमोहजालस्स' (पडि)। २ फोड़ा  
हुआ, तोड़ा हुआ; 'पफोडिसउणियिअंउं व  
ते हंति निस्सारा' (संबोध १७)।

पफोडेमाण देखो पफोड = प्र + स्फोटय्।  
पफुल्ल देखो पफुल्ल (पड)।

पफुल्लिअ देखो पफुल्लिअ (हे ४, ३६६;  
पिग)।

पवंध सक [प्र + वन्ध्] प्रबन्ध ह्य से  
कहना, विस्तार से कहना। पवंधिया (दस  
५, २, ८)।

पवंध पुं [प्रवन्ध] १ सन्दर्भ, ग्रन्थ, परस्पर  
अन्वित वाक्य-समूह (रंभा ८)। २ अत्रिच्छेद,  
निरन्तरता (उत्त ११, ७)।

पवंधण न [प्रवन्धन] प्रबन्ध, सन्दर्भ, अन्वित  
वाक्य-समूह की रचना; 'कहाए य पवंधणो'  
(सम २१)।

पवल वि [प्रवल] वलिष्ठ, प्रचण्ड, प्रखर  
(कुमा)।

पवाहा की [प्रवाधा] प्रकट वाचा, विशेष  
पीड़ा (राया १, ४)।

पवुद्ध वि [प्रवुद्ध] १ प्रवीण, निपुण (से  
१२, ३४)। २ जाना हुआ (सुर ५, २२६)।

३ जिसने अच्छी तरह जानकारी प्राप्त की हो  
वह (आचा)।

पवोध सक [प्र + बोधय्] १ जागृत करना।  
२ ज्ञान कराना। कर्म. पवोधीआमि (पि  
५४३)।

पवोधण न [प्रवोधन] प्रकट बोधन (राज)।  
पवोह देखो पवोध। क. पवोहर्णाय (पउम  
७०, २८)।

पवोह पुं [प्रवोध] १ जागरण। २ ज्ञान,  
समझ (चार ५४; पि १६०)।

पवोहण देखो पवोधण (राज)।

पवोहय वि [प्रवोधक] प्रवोध-कर्ता (विसे  
१७३)।

पवोहिअ वि [प्रवोधित] १ जगाया हुआ।  
२ जिसको ज्ञान न कराया गया हो वह (सुपा  
३१३)।

पव्वल देखो पवल (से ४, २५; ६, ३३)।

पव्वाल देखो पव्वाल = द्वादय्। पव्वालड  
(हे ४, २१)।

पव्वाल देखो पव्वाल = प्लावय्। पव्वालड  
(हे ४, ४१)।

पव्वुद्ध देखो पवुद्ध (पि १६६)।

पव्ववि [प्रह्व] नत्र (औप; प्राक २४)।

पव्वभट्ट } वि [प्रभट्ट] १ परिभट्ट,  
पव्वभसिअ } प्रस्तलित, चूका हुआ (परह  
१, ३; अग्नि ११६; गा ३१८; सुर ३,  
१२३; गा ३३; ६५)। २ विस्मृत (से १४,  
४२)। ३ पुं. नरकावास-विशेष (देवेन्द्र २८)।

पव्वभार पुं [दे. प्राग्भार] १ संघात, समूह;  
जत्या (दे ६, ६६; से ४, २०; सुर १,  
२२३; कप्पु; गडड; कुलक २१)।

पव्वभार पुं [दे.] गिरि-गुफा, पर्वत-कन्दरा (दे  
६; ६६); 'पव्वभारकंदरगया साहंती अप्पणो  
अट्ट' (पव्व ८१)।

पव्वभार पुं [प्राग्भार] १ प्रकट भार, 'कुमरे  
संकमियरज्जपव्वभारो' (वम्म ८ टी)। २ ऊपर

का भाग (से ४, २०)। ३ थोड़ा नमा हुआ  
पर्वत का भाग (राया १, १—पत्र ६३, भाग  
५, ७)। ४ एक देश, एक भाग (से १, ५८)। ५  
उत्कर्ष, परमाण (गडड)। ६ पुं. पर्वत के  
ऊपर का भाग (एदि)। ७ वि. थोड़ा नमा  
हुआ, ईपद्वनत (अंत ११; ठा १०)।

पव्वभारा की [प्राग्भारा] दशा-विशेष, पुरुष  
की सत्तर से अस्सी वर्ष तक की अवस्था (ठा  
१०—पत्र ५१६; तंडु १६)।

पव्वभूअ वि [प्रभूत] उत्पन्न, 'मंडुवकीए गम्भे,  
पव्वभूओ द्दुदुरत्तेण' (वर्मवि ३५)।

पव्वभूअ पुं [दे. प्रभोग] भोग, विलास (दे  
६, १०)।

पभ पुं [प्रभ] १ हरिकान्त नामक इन्द्र का  
एक लोकपाल (ठा ४, १; इक)। २ द्वीप-  
विशेष और समुद्र-विशेष का अधिपति देव  
(राज)।

पभ वि [प्रभ] सदृश, तुल्य (कप्प; उवा)।

पभइ देखो पभिइ; 'चंडाणं चंडवहपभईणं'  
(अज्ज १४१)।

पभंकर पुं [प्रभङ्कर] १ ग्रह विशेष, ज्योतिष-  
देव-विशेष (ठा २, ३)। २ पुं. देव-विमान  
(सम ८; १४; पव २६७)।

पभंकर वि [प्रभाकर] प्रकाशक, 'सव्वलोक-  
पमंकरो' (उत्त २३, ७६)।

पभंकरा की [प्रभङ्करा] १ विदेह-वर्ष की  
एक नगरी का नाम (ठा २, ३)। २ चन्द्र  
की एक अग्रमहिषी का नाम (ठा ४, १)।

३ सूर्य की एक अग्रमहिषी का नाम (भाग  
१०, ५)।

पभंकरावई की [प्रभङ्करावती] विदेह वर्ष  
की एक नगरी (आवू १)।

पभंगुर वि [प्रभङ्गुर] अति विनश्वर  
(आचा)।

पभंजण पुं [प्रभञ्जन] १ वायुकुमार-निकाय  
के उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३; ४, १;  
सम ६६)। २ लवण-समुद्र के एक पाताल-  
कलश का अधिष्ठायाक देव (ठा ४, २)।

३ वायु, पवन (से १४, ६६)। ४ मानुषोत्तर  
पर्वत के एक शिखर का अधिपति देव (राज)।

पभण पुं [तनय] हनुमान् (से १४, ६६)।

पभंसण न [प्रभ्रंशन] स्वलता (धर्मसं १०७६)।

पभकंत पुं [प्रभकान्त] १—२ विद्युत्कुमार देवों के हरिकान्त और हरिस्सह नामक दोनों इन्द्रों के लोकपालों के नाम (ठा ४, १—पत्र १६७; इक)।

पभण सक [प्र + भण्] कहना, बोलना। पभणइ (महा; सण)।

पभणिय वि [प्रभणित] उक्त, कथित (सण)।

पभम सक [प्र + भ्रम्] भ्रमण करना, भटकना। पभमेसि (श्रु १५३)।

पभव अक [प्र + भू] १ समर्थ होना, पहुँचना। २ होना, उत्पन्न होना। पभवइ (पि ४७५)। वक्र. पभवंत (सुपा ८६; नाट—विक्र ४५)।

पभव पुं [प्रभव] १ उत्पत्ति, जन्म, प्रसूति, प्रसव (ठा ६; वसु)। २ प्रथम उत्पत्ति का कारण (एदि)। ३ एक जैनमुनि, जम्बु-स्वामी का शिष्य (कप्प; वसु; एदि)।

पभवा स्त्री [प्रभवा] तृतीय वासुदेव की पटरानी (पउम २०, १८६)।

पभविय वि [प्रभूत] जो समर्थ हुआ हो, 'सा विज्जा सिट्ठसुए उदग्गपुत्रम्मि पभविया नेव' (धर्मत्रि १२३)।

पभा स्त्री [प्रभा] १ कान्ति, तेज (महा; धर्मसं १३३३)। २ प्रभाव; 'निच्चुज्जोया रम्मा, सयंपभा ते विरायति' (देवेन्द्र ३२०)।

पभाइअ पुं [प्रभात] १ प्रातःकाल, सुबह पभाय (पउम ७०, ५६; सुर ३, ६६; महा; स २४४)। २ वि. प्रकाशित; रयणीए पभायाए (उप ६४८ टी)। तणय वि [संवन्धिच्] प्राभातिक, प्रभात-सम्बन्धी, सुबह का (सुर ३, २४८)।

पभार पुं [प्रभार] प्रकृष्ट भार (सम १५३)। पभाव देखो पहाव = प्र + भाव्य। पभावेइ, पभावंति (उव; पव १४८)। वक्र. पभावित (सुपा ३७६)।

पभाव देखो पहाव—प्रभाव (स्वप्न ६८)।

पभावई स्त्री [प्रभावती] १ उत्तीसवें जिन-देव की माता का नाम (सम १५१)। २ रावण की एक पत्नी का नाम (पउम ७४,

११)। ३ उदायन राजपि की पटरानी और चेड़ा नरेश की पुत्री का नाम (पडि)। ४ बलदेव के पुत्र निपव की भार्या (आचू १)। ५ राजा बल की पत्नी (भग ११, ११)।

पभावग वि [प्रभावक] प्रभाव बढ़ानेवाला, शोभा की वृद्धि करनेवाला (आ ६; द्र २३)। २ उन्नति-कारक। ३ गौरव जनक (कुप्र १६८)।

पभावण न [प्रभावन्] नीचे देखो (श्रु ९)।

पभावणा स्त्री [प्रभावना] १ महात्म्य, गौरव। २ प्रसिद्धि, प्रख्याति (एया १, १६—पत्र १२२; आ ६; महा)।

पभावय वि [प्रभावक] गौरव बढ़ानेवाला (संबोध ३१)।

पभावाल पुं [प्रभावाल] वृक्ष-विशेष (राज)। पभावित देखो पभाव = प्र + भाव्य।

पभास सक [प्र + भाप्] बोलना, भाषण करना। पभासति (विसे ४६६ टी)। वक्र. पभासंत, पभासयंत, पभासमाण (उप पृ २३; पउम ५५, १८; ८६, १०)।

पभास अक [प्र + भास्] प्रकाशित होना। पभासिति (सुज १६)। भूका—पभासिसु (भग; सुज १६)। भवि. पभासिस्विति (सुज १६)। वक्र. पभासमाण (कप्प)।

पभास सक [प्र + भासय्] प्रकाशित करना। प्रभासेइ (भग)। पभासति (सुज ३—पत्र ६४)। वक्र. पभासयंत, पभासे-माण (पउम १०८, ३३; रयण ७५; कप्प; उवा; औप; भग)।

पभास पुं [प्रभास] १ भगवान् महावीर के एक गणधर का नाम (सम १६; कप्प)। २ एक विकटापाती पर्वत का अधिष्ठाता देव (ठा २, ३—पत्र ६६)। ३ एक जैन मुनि का नाम (धर्म ३)। ४ एक चित्रकार का नाम (धम्म ३१ टी)। ५ न. तीर्थ-विशेष (जं ३, महा)। ६ देव-विमान-विशेष (सम १३, ४१)। तित्थ न [तीर्थ] तीर्थ-विशेष, भारतवर्ष की पश्चिम दिशा में स्थित एक तीर्थ (इक)।

पभासा स्त्री [प्रभासा] अहिंसा, दया (पएह २, १)।

पभासिय वि [प्रभापित] उक्त, कथित (सुप्र १, १, १, १६)।

पभासेमाण देखो पभास = प्र + भास्य।

पभिइ देखो पभिई (द्र ५५)।

पभिइ वि.व. [प्रभृति] इत्यादि, वगैरह (भग; उवा; महा)।

पभिई } अ [प्रभृति] प्रारम्भ कर, (वहां पभिई } से) शुरू कर, लेकर; 'बालभावाओ पभीइ } पभिई' (सुर ४, १६७; कप्प; पभीई } महा; स ७३६; २७५ टि)।

पभीय वि [प्रभीत] अति भीत, अत्यन्त डरा हुआ (उत ५, ११)।

पभु पुं [प्रभु] १ इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम (पउम ५, ७)। २ स्वामी, मालिक (पउम ६३, २६; वृह २)। ३ राजा, नृप; 'पभू राया अणुप्पभू जुवराया' (निचू २)। ४ वि. समर्थ, शक्तिमान् (आ २७; भग १५, उवा, ठा ४, ४)। ५ योग्य, लायक; 'पभुति वा जोगोति वा एगट्ठा' (निचू २०)।

पभुंज सक [प्र + भुज्] भोग करना। पभुंजेदि (शौ) (द्रव्य ६)।

पभुति (वै) देखो पभिई (कुमा)।

पभुत्त वि [प्रभुत्त] १ जिसने खाने का प्रारम्भ किया हो वह (सुर १०, ५८)। २ जिसने भोजन किया हो वह (स १०४)।

पभूइ } देखो पभिई (पउम ६, ७६; स पभूइ } २७५)।

पभूय वि [प्रभूत] प्रचुर, बहुत (भग; पउम ५, ५; एया १, १; सुर ३, ८१; महा)।

पभोय (अप) देखो उवभोग; 'भोय-पभोयमाणु जं किज्जह' (भवि)।

पमइल वि [प्रमलिन] अति मलिन (एया १, १)।

पमक्खण न [प्रमूक्षण] १ अग्र्यजन, विले-पन। २ विवाह के समय किया जाता एक तरह का उवटन (स ७४)।

पमक्खिअ वि [प्रमूक्षित] १ विलिप्त। २ विवाह के समय जिसको उवटन किया गया हो वह (वसु; सम ७५)।

पमज्ज सक [प्र + मृज्, मार्ज्] मार्जन करना, साफ-सुथरा करना, झाड़ू आदि से धूलि वगैरह को दूर करना। पमज्जइ (उव;

उवा)। पमज्जिया (आचा)। वहु. पमज्जेमाण (ठा ७)। संहु. पमज्जित्ता (भग; उवा)। हेहु. पमज्जित्तु (पि ५७७)।

पमज्जण न [प्रमार्जन] मार्जन, भूमि-शुद्धि (अंत)।

पमज्जणिया } स्त्री [प्रमार्जनी] स्नाह, भूमि  
पमज्जणी } साफ करने का उपकरण (राया  
१, ७; वर्म ३)।

पमज्जय वि [प्रमार्जक] प्रमार्जन करनेवाला (दे ५, १८)।

पमज्जिअ वि [प्रमृष्ट, प्रमार्जित] साफ किया हुआ (उवा; महा)।

पमत्त वि [प्रमत्त] १ प्रमाद-युक्त, असाव-  
वान, प्रमादी, वेदरकार (उव; अमि १८५;  
प्राप् ६८)। २ न. छठवां गुण-स्वानक  
(कम्म ४, ४७; ५६)। ३ प्रमाद (कम्म २)।  
°लोग पुं [°योग] प्रमाद-युक्त चेष्टा (भग)।  
°संजय पुं [°संयत] प्रमादी साधु, प्रमाद-  
युक्त मुनि (भग ३, ३)।

पमद् देखो पमय (स्वप्न ५१; कप्पु)।

पमदा देखो पमया (नाट—शकु २)।

पमद् सक [प्र + मृद्] १ नर्दन करना।  
२ विनाश करना। ३ कम करना। ४ चूर्ण  
करना। ५ ढई की पूर्णी—पूनी बनाना।  
वहु. पमद्दमाण (पिड ५७४)।

पमद्द पुं [प्रमर्द] १ ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध  
एक योग (सम १३; सुज १०, ११)। २  
संघर्ष, संमर्द (राज)। ३ वि. नर्दन करने-  
वाला। ४ विनाशक; 'सारं मरणइ सच्चं  
पचककाणं तु नवदुहपमर्दं' (संनोव ३७)।

पमद्दण न [प्रमर्दन] १ चूरना, चूर्ण करना  
(राय)। २ नाश करना। ३ कम करना  
(सम १२२)। ४ ढई की पूर्णी करना (पिड  
६०३)। ५ वि. विनाश करनेवाला (पंच  
१४, ४२)।

पमद्दय वि [प्रमर्दक] प्रमर्दन-कर्ता (दसनि  
१०, ३०)।

पमद्दि वि [प्रमर्दिन्] प्रमर्दन करनेवाला  
(श्रीप, पि २६१)।

पमय पुं [प्रमद्] १ शानन्द, हर्ष (काल; था  
२७)। २ न. बरूरी का फल। °च्छी स्त्री  
[°क्षी] स्त्री, महिला (सुपा २३०)। °वण

न [°वन] राजा का अन्तःपुर-स्वित वह वन  
या वागीचा जहाँ राजा रानियों के साथ क्रीड़ा  
करे (सि ११, ३७; राया १, ८; १३)।

पमया स्त्री [प्रमदा] उत्तम स्त्री, श्रेष्ठ महिला  
(उव; वृह ४)।

पमह पुं [प्रमथ] शिव का अनुचर (पाथ)।  
°णाह पुं [°नाय] महादेव (समु १५०)।  
°हिय पुं [°धिप] शिव, महादेव (सा  
४४८)।

पमा सक [प्र + मा] सत्य-सत्य ज्ञान करना।  
कर्म. पमीयए (विसे ६४६)।

पमा स्त्री [प्रमा] १ प्रमाण, परिमाण; 'पौत्र-  
लधाउविण्मिअविहवियममाहुल्लिगआहरणं'  
(कुमा)। २ प्रमाण, न्याय; 'अतिपसंगो  
पमात्तिदो' (वर्मसं ६८)।

पमा° देखो पमाय = प्रमाद (वव १)।

पमाइ वि [प्रमादिन्] प्रमादी, वेदरकार  
(सुपा ५४३; उव; आचा)।

पमाइअव्य देखो पमाय = प्र + मद्।

पमाइह् देखो पमाइ; 'वम्मपमाइह्ले' (उप  
७२८ टी)।

पमाण सक [प्र + मानय्] विशेष रीति से  
मानना, आदर करना। हु. पमाणणिज्ज  
(आ २७)।

पमाण न [प्रमाण] १ यथार्थ ज्ञान; सत्य  
ज्ञान। २ जिससे वस्तु का सत्य-सत्य ज्ञान  
हो वह, सत्य ज्ञान का साधन (अणु)। ३  
जिससे नाप किया जाय वह; 'अणुपमाणपि'  
(आ २७; भग; अणु)। ४ नाप, माप, परि-  
माण (विचार ५४४; ठा ५, ३; जीवस ६४;  
भग; विपा १, २)। ५ संख्या (अणु; जी  
२६)। ६ प्रमाण-शास्त्र, न्याय-शास्त्र, तक-  
शास्त्र; 'लक्खणसाहित्तपमाणजोइसाईणि' सा  
पडइ' (सुपा १०३)। ७ पुंन. सत्य रूप से  
जिसका स्वीकार किया जाय वह। ८ मान-  
नीय, आदरणीय। ९ सच्चा, सही, ठीक-ठीक,  
यथार्थ; 'कमागथो जो य जेसि किल वम्मो  
सो य पमाणो तेवि' (सुपा ११०; था १४);  
'सुचिरंपि अच्चमाणो नलयंभो  
पिच्च इच्चुवाडम्मि।

कीस न जायइ महुरो जइ  
सेसग्गी पमाणं ते' (प्राप् ३३)।

°वाय पुं [°वाद] न्याय-शास्त्र, तक-शास्त्र

(सम्मत ११७)। °संवच्छर पुं [°संवत्सर]  
वर्ष-विशेष (सुज १०, २०)।

पमाण सक [प्रमाणय्] प्रमाण रूप से  
स्वीकार करना। पमाण, पमाणह (पिंग)।  
वहु. पमाणंत (उवर १८६)। हु. पमाणि-  
यव्य (सिदि ६१)।

पमाणिअ वि [प्रमाणित] प्रमाण रूप से  
स्वीकृत (सुपा ११०; था १२)।

पमाणिआ } स्त्री [प्रमाणिका, प्रमाणी]  
पमाणी } छन्द-विशेष (पिंग)।

पमाणीकर अक [प्रमाणी + कृ] प्रमाण  
करना, सत्य रूप से स्वीकार करना। कर्म.  
पमाणीकरोअदि (शौ) (पि ३२४)। संहु.  
पमाणीकिअ (नाट—मालवि ४०)।

पमाद् देखो पमाय = प्र + मद्। हु. पमादे-  
यव्य (राया १, १—पत्र ६०)।

पमाद् देखो पमाय = प्रमाद (भग; श्रीप; स्वप्न  
१०३)।

पमाय अक [प्र + मद्] प्रमाद करना,  
वेदरकारी करना। पमायइ, पमायए (उव;  
पि ४६०)। वहु. पमायंत (सुपा १०)।  
हु. पमाइअव्य (भग)।

पमाय पुं [प्रमाद्] १ कर्तव्य कार्य में  
अप्रवृत्ति और अकर्तव्य कार्य में प्रवृत्ति रूप  
असावधानता, वेदरकारी (आचा; उत ४,  
३२; महा; प्राप् ३८; १३४)। २ दुःख,  
कष्ट; 'सन्नगलोवाण वि जा विमायासमा  
समुप्पाइयमुप्पमाया' (सत्त ३५)।

पमार पुं [प्रमार] १ मरण का प्रारम्भ (भग  
१५)। २ बुरी तरह मारना (ठा ५, १)।

पमारणा स्त्री [प्रमारणा] बुरी तरह मारना  
(वव ३)।

पमिय वि [प्रमित] परिमित, नापा हुआ;  
'अंगुलमूलासंखिअभागपमिया उहोति सेडोओ'  
(पंच २, २०)।

पमिलण वि [प्रस्तान] अतिशय मुरझाया  
हुआ (ठा ३, १; वर्मवि ५५)।

पमिलाय अक [प्र + स्लै] मुरझाना, पण-  
पन्नाय परेणं जोणी पमिलायए, महिलियाए'  
(तंडु ४)।

पमिल्ल अक [ प्र + मील् ] विशेष संकोच करना, सकुचना । पमिल्लइ (हे ४, २३२; प्राप्र) ।  
 पमीय<sup>०</sup> देखो पमा = प्र + मा ।  
 पमील देखो पमिल्ल । पमीलइ (हे ४, २३२) ।  
 पमुइअ वि [ प्रमुदित ] हर्ष-प्राप्त, हर्षित (श्रीप, जीव ३) ।  
 पमुंच सक [ प्र + मुच ] छोड़ना, परित्याग करना । पमुंचति (उव) । कर्म, पमुचइ (पि ५४२) । भवि, पमोक्खसि (आचा) । वक्र, पमुंचमाण (राज) ।  
 पमुक्क वि [ प्रमुक्त ] परित्यक्त (हे २, ६७; पइ) ।  
 पमुक्ख देखो पमुह (सुपा १०; यु ११; जी १०) ।  
 पमुच्छिय पुं [ प्रमुच्छित ] नरकावास-विशेष (दिवेन्द्र २७) ।  
 पमुत्त देखो पमुक्क (पि ५६६) ।  
 पमुदिय देखो पमुइअ (सुर ३, २०) ।  
 पमुद्ध वि [ प्रमुग्ध ] अत्यन्त मुग्ध (नाट—मालती ४४) ।  
 पमुह वि [ प्रमुख ] १ तल्लोत्त दृष्टिवाला, 'एगप्पमुहे' (आचा) । २ पुं, ग्रह-विशेष, ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३) । ३ न. प्रकट आरम्भ, आदि, आपात; 'किपागफल-सरिच्छो नोगा पमुहे हवन्ति गुणमहुरा' (पउम १०८, ३१; पाप्र) ।  
 पमुह वि. व. [ प्रमुख ] १ वगैरह, आदि । २ प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य (श्रीप; प्रासू १६६) ।  
 पमुहर वि [ प्रमुखर ] नाचाल, वकवादी (उत्त १७, ११) ।  
 पमेइल वि [ प्रमेदस्विन्न ] जिसके शरीर में चर्बी बहुत हो वह, 'भूले पमेइले वज्जे पाइमेत्ति य नो वर्ण' (दस ७, २२) ।  
 पमेय वि [ प्रमेय ] प्रमाण-विषय, सत्य-पदार्थ (वर्मसं ११६०) ।  
 पमेह पुं [ प्रमेह ] रोग-विशेष, मेह रोग, मूत्र-रोग; बहुपुत्रता (निहू १) ।  
 पमोअ पुं [ प्रमोद ] १ आनन्द, खुशी, हर्ष (सुर १, ७८; महा; एदि) । २ राक्षस-वंश के एक राजा का नाम, एक लंका-पति (पउम ५, २६३) ।

पमोक्ख<sup>०</sup> देखो पमुंच ।  
 पमोक्ख पुं [ प्रमोक्ष ] १ मुक्ति, निर्धारण (सूत्र १, १०, १२) । २ प्रत्युत्तर, जवाब; 'नो संचाएइ ..... किंचिवि पमोक्खमक्खाइउं' (भग) ।  
 पमोक्खण न [ प्रमोचन ] परित्याग; 'कंठा-कंडियं अक्खासिय वाहपमोक्खणं करेइ' (खाया १, २—पत्र ८८) ।  
 पमोयणा व्री [ प्रमोदना ] प्रमोदन, प्रमोद, आह्लाद, आनंद (चिइय ४११) ।  
 पम्मलाअ अक [ प्र + म्लै ] अधिक म्लान होना । पम्मलाअदि (शौ); (पि १३६; नाट—मालती ५३) ।  
 पम्माअ ) वि [ प्रम्लान ] १ विशेष म्लान, पम्माइअ } अत्यन्त मुरझाया हुआ; 'पम्माअ-सिरोसाइ व । जह से जायाइ अंगाइ' (गा ५६; गा ५६ टि) । २ शुष्क; 'वसहा य जायथामा, गामा पम्मायत्तिवत्तला' (वर्मवि ५३) ।  
 पम्माण वि [ प्रम्लान ] १ निस्तेज, मुरझाया हुआ । २ न. फोंकापन, मुरझाना; 'पम्हा (? म्मा) एअएणलिंगो' (अणु १३६) ।  
 पम्मि पुं [ दे ] पाणि, हाथ, कर (पइ) ।  
 पम्मुक्क देखो पमुक्क (हे २, ६७; पइ; कुमा) ।  
 पम्मुह वि [ प्राङ्मुख ] पूर्व की ओर जिसका मुँह हो वह (भवि; वज्जा १६४) ।  
 पम्ह पुं [ पक्ष्मन् ] १ अक्षि-लोम, वरवनी, आँख के बाल (पाप्र) । ३ पक्ष आदि का केसर, किजल्क (उवा; भग; विपा १, १) । ३ सूत्र आदि का अत्यल्प भाग । ४ पंख, पाँख (हे २, ७४; प्राप्र) । ५ केश का अग्र-भाग (से ६, २०) । ६ अग्र-भाग; 'एअणहु-आसणपइत्तपत्तणपम्ह' (से १५, ७३) । ७ महाविदेह वर्ष का एक विजय—प्रदेश (ठा २, ३; इक) । ८ न. एक देव-विमान (सम १५) । ९ कंत न [ कान्त ] एक देव-विमान का नाम (सम १५) । १० कूड पुं [ कूट ] १ पर्वत-विशेष (राज) । २ न. ब्रह्मलोक नामक देवलोक का एक देव-विमान (सम १५) । ३ पर्वत-विशेष का एक शिखर (ठा २, ३; ६) । ४ कय न [ ध्वज ]

देव-विमान-विशेष (सम १५) । ५ पभ न [ प्रभ ] ब्रह्मलोक का एक देवविमान (सम १५) । ६ लेस, लेसस न [ लेश्य ] ब्रह्मलोक-स्थित एक देव-विमान (सम १५; राज) । ७ वण्ण न [ वर्ण ] वही पूर्वोक्त अर्थ (सम १५) । ८ सिंग न [ शृङ्ग ] वही अर्थ (सम १५) । ९ सिट्ट न [ सृष्ट ] वही पूर्वोक्त अर्थ (सम १५) । १० वत्त न [ वत्त ] वही अर्थ (सम १५) ।  
 पम्ह देखो पउम (पएह १, ४—पत्र ६७; ७८; जीव ३) । गंध वि [ गन्ध ] १ कमल की गन्ध । २ वि. कमल के समान गन्धवाला (भग ६, ७) । ३ लेस वि [ लेदय ] पद्मा नामक लेश्यावाला (भग) । ४ लेसा व्री [ लेस्या ] लेश्या-विशेष, पाँचवीं लेश्या, आत्मा का शुभतर परिणाम-विशेष (ठा ३, १; सम ११) । ५ लेसस देखो लेस (पएण १७—पत्र ५११) ।  
 पम्हअ सक [ प्र + स्मृ ] भूल जाना, विस्मरण होना । पम्हअइ (प्राकृ ६१) ।  
 पम्हगावई व्री [ पद्मकावती ] महाविदेह वर्ष का एक विजय, प्रदेश-विशेष (ठा २, ३; इक) ।  
 पम्हट्ट वि [ प्रस्मृत ] १ विस्मृत (से ४, ४२) । २ जिसको विस्मरण हुआ हो वह; 'कि पम्हट्ट म्हि अहं तुह चलणुप्परणत्तिवह-आपडिउएण' (से ६, १२) ।  
 पम्हट्ट वि [ दे ] १ प्रभ्रष्ट, विलुप्त (से ४, ४२) । २ फोंका हुआ, प्रक्षिप्त; 'पम्हट्ट' वा परिट्टिवियं ति वा एगट्ट' (वव १) ।  
 पम्हय वि [ पक्ष्मज ] १ पक्ष्म से उत्पन्न । २ न. एक प्रकार का सूता (पंचमा) ।  
 पम्हर पुं [ दे ] आमृत्यु, अकाल-मरण (दे ६, ३) ।  
 पम्हल वि [ पक्ष्मल ] पक्ष्म-युक्त, सुंदर अक्षि-लोमवाला (हे २, ७४; कुमा; पइ; श्रीप; गउड; सुर ३, १३६; पाप्र) ।  
 पम्हल पुं [ दे ] किजल्क, पक्ष आदि का केसर (दे ६, १३; पइ) ।  
 पम्हलिय वि [ दे. पक्ष्मलित ] धवलित, सफेद किया हुआ; 'लायएणजेन्हापवाहपम्ह-लियचउदिसामोअो' (स ३६) ।



पन्हस सक [वि + स्मृ] विस्मरण करना, भूल जाना । पन्हसइ (पड्); पन्हसिज्जासु (गा ३४८) ।

पन्हसाविय वि [विस्मारित] भूलाया हुआ, विस्मृत कराया हुआ (सुख २, ५) ।

पन्हा ली [पद्मा] १ लेश्या-विशेष, पद्म-लेश्या; आत्मा का शुभतर परिणाम-विशेष (कम्म ३, २२; था २६) । २ विजय-क्षेत्र विशेष (राज) ।

पन्हार पुं [दे] अपमृत्यु, वेमौत मरण (दे ६, ३) ।

पन्हावई ली [पद्मावती] १ विजय-विशेष की एक नगरी (ठा २, ३; इक) । २ पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) ।

पन्हट्ट वि [दे] १ नष्ट, नाश-प्राप्त (हे ४; २५८) । २ विस्मृत; 'पन्हट्टं विम्हरिअं' (पात्र), 'किं य तयं पन्हट्टं' (एया १, ८—पत्र १४८; विचार २३८) ।

पन्हत्तरवडिसग न [पद्मोत्तरावतंसक] ब्रह्मलोक में स्थित एक देव-विमान (सम १५) ।

पन्हस सक [वि + स्मृ] भूलना, विस्मरण करना । पन्हसइ (हे ४, ७५) ।

पन्हस सक [प्र + मृद्] स्पर्श करना । पन्हसइ; पन्हस (हे ४, १८४; कुमा ७, २६) ।

पन्हस सक [प्र + सुप्] चोराना, चोरी करना । पन्हसइ; पन्हसइ; पन्हसंति (हे ४, १८४; सुपा १३७; कुमा ७, २६) ।

पन्हसण न [विस्मरण] विस्मृति (पंचा १५, ११) ।

पन्हसिअ वि [विस्मृत] जिसका विस्मरण हुआ हो वह (कुमा; उप ७६८ टी) ।

पन्हह सक [स्मृ] स्मरण करना, याद करना । पन्हहइ (हे ४, ७४) ।

पन्हहण वि [स्मर्तु] स्मरण करनेवाला (कुमा) ।

पय सक [पच्] पकाना, पाक करना । पयइ (हे ४, २०) । वक्र. पर्यंत (कम्प) । संक्र. पइउं (कुप्र २६६) ।

पय सक [पद्] १ जाना । २ जानना । ३ विचारना । पयइ (विसे ४०८) ।

पय पुंन [पयस्] १ क्षीर, दूध; 'पयो' (हे १, ३२; ओष १२; पात्र) । २ पानी, जल (सुपा १३६; पात्र) । ३ हर देखो पओहर (पिंग) ।

पय पुं [प्रज] प्राणी, जन्तु (आचा) ।

पय पुंन [पद्] १ विभक्ति के साथ का शब्द, 'पयमत्यवायगं जोयगं च तं नामियाइं पंचविहं' (विसे १००३; प्रासू १३८; था २३) । २ शब्द-समूह, वाक्य; 'उवएसपया इहं समन्ताया' (उप १०३८; था २३) । ३ पैर, पांव, चरण; 'जाणं च तज्जणातज्जणोइ लण्णो ठवेमि मंदपए, कव्वपहे वालो इव', 'जाव न सत्तट्ट पए पच्चाहुत्तं नियत्तो सि' (सुपा १; वनंवि ५४; सुर ३, १०७; था २३) । ४ पाद-चिह्न, पदाङ्क (सुर २, २३२; सुपा ३५४; था २३; प्रासू ५०) । ५ पय का चौथा हिस्ता (अणु) । ६ निमित्त, कारण (आचा) । ७ त्याग; 'अवमाणपर्यं हि सेव ति' (सुर २, १६७; था २३) । ८ पदवी, अविकार; 'खुवरायपए किं नवि अहिंसिच्चइ देव मे पुत्तो?' (सुर २, १७५; महा) । ९ त्राण, शरण । १० प्रदेश । ११ व्यवसाय (था २३) । १२ कूट, जाल-विशेष (सूत्र १, १, २, ८) । १३ न [क्षेम] शिव; कल्याण; 'कुव्वइ अ सो पयत्तेममण्यणो' (दस ६, ४, ६) । १४ त्थ पुं [त्थ] पदाति, पैदल, प्यादा; 'तुरएण सह तुरंगो पाइक्को सह पयत्तेण' (पउम ६, १८२) । १५ पास पुं [पाश] बाजुरा, जाल आदि बन्धन (सूत्र १, १, २, ८, ९) । १६ रक्ख पुं [रक्ष] पदाति, प्यादा (नवि; हे ४, ४१८) । १७ वगह पुं [विग्रह] पदविच्छेद (विसे १००६) । १८ विभाग पुं [विभाग] उत्सर्ग और अपवाद का यथा-न्याय निवेश, सामा-चारी-विशेष (आव १) । १९ वीह देखो पाय-वीह (पव ४०; सुपा ६५६) । २० समास पुं [समास] पदों का समुदाय (कम्म १, ७) । २१ णुसारि वि [णुसारिन्] एक पद से अनेक अनुक्त पदों का भी अनुसंधान करने की शक्तिवाला (श्रीप, वृह १) । २२ णुसारिणी ली [णुसारिणी] बुद्धि-विशेष, एक पद के श्रवण से दूसरे अश्रुत पदों का स्वयं पता लगानेवाली बुद्धि (परएण २१) ।

पय (अप) देखो पत्त = प्राप्त (पिंग) ।

पयं देखो पया = प्रजा । १ पाल वि [पाल] १ प्रजा का पालक । २ पुं. वृष-विशेष (सिरि ४५) ।

पय वि [प्रद] देनेवाला, 'पीइण्यं' (रंभा) ।

पयइ ली [प्रकृति] संवि का अभाव (अणु ११२) ।

पयइ देखो पगइ (गा ३१७; गउड; महा; नव ३१; मत्त ११४; कम्प; कुप्र ३४६) ।

पयइंद पुं [पतगेन्द्र, पदकेन्द्र] वानव्यन्तर-जातीय देवों का इन्द्र (ठा २, ३) ।

पयई देखो पयवी (गउड) ।

पर्यंग पुं [पतङ्ग] १ सूर्य, रवि (पात्र); 'तो हरिसपुलइयंगो चक्को इव दिट्ठउग्गयपर्यंगो' (उव ७२८ टी) । २ रंग-विशेष, रञ्जन-द्रव्य-विशेष (उर ६, ४, सिरि १०५७) । ३ शजभ, फतिगा, उड़नेवाला छोटा कीट (एया १, १७; पात्र) । ४—५ देखो पर्यय = पतय, पदक, पदग (परह १, ४—पत्र ६८; राज) । ६ वीहिया ली [वीथिका] १ शलन का उड़ना । २ निज्ञा के लिए पतंग की तरह चलना, बीच में दो चार धरों को छोड़ते हुए निज्ञा लेना (उत्त ३०, १६) । ३ वीही ली [वीथी] वही पूर्वोक्त अर्थ (उत्त ३०, १६) ।

पर्यंचुल पुं [प्रपञ्चुल] मत्स्यबन्धन-विशेष, मछली पकड़ने का एक प्रकार का जाल (विपा १, ८—पत्र ८५) ।

पर्यंड वि [प्रचण्ड] १ अत्युग्र, तीव्र; प्रत्तर । २ भयानक, भयंकर (परह १, १; ३; ४; उव) । ३ पर्यंड वि [प्रकाण्ड] अत्युग्र, उत्कट (परह १, ४) ।

पर्यंत देखो पय = पच् ।

पर्यंप अक [प्र + कम्प] अतिशय कांपना । वक्र. पर्यंपमाण (स ५६६) ।

पर्यंप सक [प्र + जल्प] १ कहना, बोलना । २ वक्त्रवाद करना । पर्यंपए (महा) । संक्र. पर्यंपिऊण, पर्यंपिऊण (महा; पि ५८५) । कृ. पर्यंपिअव्व (गा ४५०; सुपा ५५२) ।

पर्यपण न [प्रजल्पन] कथन, उक्ति (उप  
 पृ २१७) ।  
 पर्यपिय वि [प्रकम्पित] अति कांपा हुआ  
 (स ३७७) ।  
 पर्यपिय वि [प्रजल्पित] १ कथित, उक्त ।  
 २ न. कथन, उक्ति । ३ वक्त्रवाद, व्यर्थ  
 जल्पन (विपा १, ७) ।  
 पर्यपिर वि [प्रजल्पित] १ बोलनेवाला ।  
 २ वाचाट, वक्त्रवादी (सुर १६, ५८; सुपा  
 ४१५; आ २७) ।  
 पर्यस सक [प्र + दर्शय्] दिखलाना ।  
 पर्यसेति (विसे ६३२) ।  
 पर्यसण न [प्रदर्शन] दिखलाना (स ६१३) ।  
 पर्यसिअ वि [प्रदर्शित] दिखलाया हुआ  
 (सुर १, १०१; १२, ३२) ।  
 पर्यक देखो पाइक (.....) ।  
 पर्यक्ख सक [प्रत्या + ख्या] प्रत्याख्यान  
 करना, प्रतिज्ञा करना । पर्यक्खेइ (विचार  
 ७५५) ।  
 पर्यक्खण देखो पदक्खण = प्रदक्षिण (खाया  
 १, १६) ।  
 पर्यक्खण देखो पदक्खण = प्रदक्षिणम् ;  
 संक्र. पर्यक्खणिकण (सुर ८, १०५) ।  
 पर्यक्खणा देखो पदक्खणा (उप १४२ टी;  
 सुर १४, ३०) ।  
 पर्यग देखो परयय = पतग, पदक, पदग (राज;  
 पत्र १६४) ।  
 पर्यच्छ सक [प्र + यम्] देना, अर्पण  
 करना । पर्यच्छइ (महा) । संक्र. पर्यच्छिऊण  
 (राज) ।  
 पर्यच्छण न [प्रदान] १ दान, अर्पण (सुर  
 २, १५१) । २ वि. देनेवाला (सण) ।  
 पर्यट्ट अक [प्र + वृत्] प्रवृत्ति करना ।  
 पर्यट्टइ (हे २, ३०; ४, ३४७; महा) । क.  
 पर्यट्टिअच्च (सुपा १२६) । प्रयो. पर्यट्टिवेह  
 (स २२) संक्र. पर्यट्टाविडे (स ७१५) ।  
 पर्यट्ट वि [प्रवृत्त] १ जिसने प्रवृत्ति की हो  
 वह (हे २, २६; महा) । २ चलित; 'पर्यट्टयं  
 चलियं' (पात्र) ।  
 पर्यट्टय वि [प्रवृत्तक] प्रवृत्ति करनेवाला  
 (पएह १, १) ।

पर्यट्टावअ वि [प्रवृत्तक] प्रवृत्ति करनेवाला  
 (कम्प) ।  
 पर्यट्टाविअ वि [प्रवृत्तित] प्रवृत्त किया हुआ,  
 किसी कार्य में लगाया हुआ (महा) ।  
 पर्यट्टिअ वि [दे. प्रवृत्तित] ऊपर देखो (दे  
 ६, २६) ।  
 पर्यट्टिअ वि [प्रवृत्त] प्रवृत्ति-युक्त (उत्त ४,  
 २; सुख ४, २) ।  
 पर्यट्टाण देखो पइट्टाण (काल; पि २२०) ।  
 पर्यड सक [प्र + कटय्] प्रकट करना,  
 व्यक्त करना । पर्यडइ, पर्यडेइ (सण; महा) ।  
 वक्र. पर्यडंत (सुपा १; गा ४०६; भवि) ।  
 हेक. पर्यडित्तु (पि ५७७) । प्रयो. पर्यडा-  
 वइ (भवि) ।  
 पर्यड वि [प्रकट] १ व्यक्त, खुला (कुमा;  
 महा) । २ विख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध;  
 'विक्रवाओ विस्तुओ पर्यडो' (पात्र) ।  
 पर्यडण न [प्रकटन] १ व्यक्त करना, खुला  
 करना (सण) । २ वि. प्रकट करनेवाला; 'जे  
 तुज्झ गुणा वहुतेहपर्यडणा' (वर्मवि ६६) ।  
 पर्यडावण न [प्रकटन] प्रकट कराना (भवि) ।  
 पर्यडाविय वि [प्रकटित] प्रकट कराया हुआ  
 (काल; भवि) ।  
 पर्यडि देखो पगइ (परण २३; पि २१६) ।  
 पर्यडि लो [दे] मार्ग, रास्ता; जे पुण  
 सम्महिट्ठी तेसि मणो चडणपर्यडीए' (सट्टि  
 १४२) ।  
 पर्यडिय वि [प्रकटित] प्रकट किया हुआ  
 (सुर ३, ४८; आ २) ।  
 पर्यडिय वि [प्रपतित] गिरा हुआ (खाया  
 १, ८—पत्र १३३) ।  
 पर्यडीकय वि [प्रकटीकृत] प्रकट किया  
 हुआ (महा) ।  
 पर्यडीकर सक [प्रकटी + कृ] प्रकट करना ।  
 प्रयो. पर्यडीकरावेमि (महा) ।  
 पर्यडीभूअ } वि [प्रकटीभूत] जो प्रकट  
 पर्यडीहूअ } हुआ हो (सुर ६, १८४; आ  
 १६; महा; सण) ।  
 पर्यडहणी लो [दे] १. प्रतिहारी । २ आकृष्टि,  
 आकर्षण । ३ महिषी (दे ६, ७२) ।  
 पर्यण देखो पवण (गा ७७७) ।  
 पर्यण देखो पडण (विसे १८५६) ।

पर्यण } न [पचन, °क] १ पाक; पकाना  
 पर्यणग } (औप; कुमा) । २ पात्र-विशेष,  
 पकाने का पात्र (सूअनि ८०; जीव ३) ।  
 °साला लो [°शाला] एक-स्थान (वृह २) ।  
 पर्यणु } वि [प्रतनु] १ कृश, पतला । २  
 पर्यणुअ } सूक्ष्म, वारिक । ग्रथ, थोड़ा (स  
 २४६; सुर ८, १६५; भग ३, ४; जं २;  
 पउम ३०, ६६; से ११, ५६; गा ६८२;  
 गउड) ।  
 पर्यणय देखो पइणय (तंदु १) ।  
 पर्यत्त अक [प्र + यत्] प्रयत्न करना ।  
 पर्यत्तव (शौ) (पि ४७१) ।  
 पर्यत्त देखो पर्यट्ट = प्र + वृत् (काल) ।  
 पर्यत्त पुं [प्रयत्त] चेष्टा, उद्यम, उद्योग (सुपा;  
 उव; सुर १, ६; २, १८२; ४, ८१) ।  
 पर्यत्त वि [प्रदत्त, प्रत्त] १ दिया हुआ  
 (भग) । २ अनुज्ञात; संमत (अनु ३) ।  
 पर्यत्त देखो पर्यट्ट = प्रवृत्त (सुर २, १५६;  
 ३, २४८; से ३, २४; ८, ३; गा ४३६) ।  
 पर्यत्ताविअ वि [प्रवृत्तित] प्रवृत्त किया हुआ  
 (काल) ।  
 पर्यत्थ पुं [पदार्थ] १ शब्द का प्रतिपाद्य,  
 पद का अर्थ (विसे १००३, नेइअ २७१) ।  
 २ तत्व (सम १०६; सुपा २०५) । ३ वस्तु,  
 चीज (पात्र) ।  
 पर्यन्न देखो पइण्ण = प्रकीर्ण (भवि) ।  
 पर्यन्ना देखो पइण्णा (उप १४२ टी) ।  
 पर्यप्पण न [प्रकल्पन] कल्पना, विचार  
 (वर्मसं ३०७) ।  
 पर्यय देखो पायय = प्राकृत (हे १, ६७;  
 गउड) ।  
 पर्यय वि [प्रयत्त] प्रयत्न-शील, सतत प्रयत्न  
 करनेवाला (औप; पउम ३; ६५; सुर १, ४;  
 उव); 'इच्छिज्ज न इच्छिज्ज व तहवि पर्यओ  
 निमतए साहू' (पुष्फ ४२६; पडि) ।  
 पर्यय पुं [पतग, पदक, पदग] १ वान-  
 व्यन्तर देवों की एक जाति (ठा २, ३; परण  
 १; इक) । २ पतग देवों का दक्षिण दिशा का  
 इन्द्र (ठा २, ३) । °वइ पुं [°पति] पतग देवों  
 का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र  
 ८५) ।  
 पर्यय न [दे] अनिश, निरन्तर (दे ६, ६) ।

पयर सक [स्मृ] स्मरण करना । पयरेइ (हे ४, ७४) । वक्र. पयरंत (कुमा) ।

पयर अक [प्र + चर्] प्रचार होना, 'रत्ना सूयारा भणिया जं लोए पयरइ तं सव्वं सव्वे रं वहे' (आवक ७३ टी) ।

पयर अक [प्र + चर्] ? फैलना । २ व्यापृत होना, काम में लगना । पयरइ (एदि ५१) ।

पयर पुं [प्रकर] समूह, साथ, जट्या; 'पयरो पिवीलियाणं भोमं पि भुवंगमं डसइ' (स ४२१; पात्र; कप्प) ।

पयर पुं [प्रदर] ? योनि का रोग-विशेष । २ विदारण, भंग । ३ शर, बाण (दे ६, १४) ।

पयर देखो पडर = वप्; 'कोडुविओ य खित्तं वल्लं पयरेइ' (सुपा ३६०) ।

पयर = देखो पयार = प्रकार (हे १, ६८; पड्) ।

पयर देखो पयार = प्रचार (हे १, ६८) ।

पयर पुंन [प्रतर] ? पत्रक, पत्रा, पतरा; 'कणुणपयरलं वमाणुत्तासमुज्जलं.....

वरविमाणुपुंडरीयं' (कप्प; जीव ३; आहु १) । २ वृत्त पत्राकार आभूषण-विशेष, एक प्रकार का गहना (श्रीप; णाया १, १) । ३ गणित-विशेष, सूची से गुणो हुई सूची (कम्म ५, ६७; जीवल ६२; १०२) । ४ भेद-विशेष, बाँस आदि की तरह पदार्थ का घृग्भाव (भास ७) । °तप पुंन [तपस्] तप-विशेष; 'वट्टं न [वृत्त] संस्थान-विशेष (राज) ।

पयर न [प्रतर] गणित-विशेष, श्रेणी से गुनी हुई श्रेणी (अणु १७३) ।

पयरण न [प्रकरण] ? प्रस्ताव, प्रसंग । २ एकार्थ-प्रतिपादक ग्रंथ । ३ एकार्थ-प्रतिपादक ग्रंथांश; 'जुम्हदम्हपयरणं' (हे १, २४६) ।

पयरण न [प्रतरण] प्रथम दातव्य मित्रा (राज) ।

पयरिस देखो पयंस । वक्र. पयरिसंत (पउम ६, ६४) ।

पयरिस देखो पगरिस (महा) ।

पयल अक [प्र + चल] ? चलना । २ स्वलित होना । पयलेज्ज (आचा २, २,

३, ३) । वक्र. पयलेमाण (आचा २, २, ३, ३) ।

पयल देखो पयड = प्र + कटय् । पअल (पिग) । संक्र. पअलि (अप) (पिग) ।

पयल देखो पयड = प्रकट (पिग) ।

पयल (अप) सक [प्र + चालय्] ? चलाना । २ गिराना । पअल (पिग) ।

पयल वि [प्रचल] चलायमान, चलनेवाला (पउम १००, ६) ।

पयल पुं [दे] नीड़, पक्षि-गृह (दे ६, ७) ।

पयल° वी [दे. प्रचला] ? निद्रा, नींद पयला (दे ६, ६) । २ निद्रा-विशेष, बैठे-बैठे और खड़े खड़े जो नींद आती है वह ।

३ जिसके उदय से बैठे-बैठे और खड़े-खड़े नींद आती है वह कर्म (सम १५; कम्म १, ११) । °पयला वी [दे. प्रचला] ? कर्म-विशेष, जिसके उदय से चलते-चलते निद्रा आती है वह कर्म । २ चलते-चलते आने-वाली नींद (कम्म १, १; ण ६; निच्च ११) ।

पयला अक [प्रचलाय्] निद्रा लेना, नींद करना । पयलाइ (पात्र) । हेऊ. पयलाइत्तए (कच) ।

पयलाइअ न [प्रचलायित] ? नींद, निद्रा । २ धूर्णन, नींद के कारण बैठे-बैठे सिर का डोलना (से १२, ४२) ।

पयलाइया वी [दे] हाथ से चलनेवाले जन्तु की एक जाति (सुअ २, ३, २५) ।

पयलाय देखो पयला = प्रचलाय् । पयलायइ (जीव ३) । वक्र. पयलायंत (राज) ।

पयलाय पुं [दे] ? हर, महादेव (दे ६, ७२) । २ सर्प, सांप (दे ६, ७२; पड्) ।

पयलायण न [प्रचलायन] देखो पयलाइअ (वृह ३) ।

पयलायभत्त पुं [दे] मयूर, मोर (दे ६, ३६) ।

पयलिअ देखो पयडिअ (पिग; पि २३८) ।

पयलिय वि [प्रचलित] ? स्वलित, गिरा हुआ (राय; आउ) । २ हिला हुआ (पउम ६८, ७३; णाया १, ८; कप्प; श्रीप) ।

पयलिय वि [प्रदलित] भांगा हुआ, तोड़ा हुआ (कप्प) ।

पयले सक [प्र = चालय्] चलायमान करना, अस्विकरना । पयलेत्ति (दसच्च १, १७) ।

पयल्ल अक [प्र + सु] पसरना, फैलना । पयल्लइ (हे ४, ७७; प्राकृ ७६) ।

पयल्ल अक [कु] ? शिथिलता करना, ढीला होना । २ लटकना । पयल्लइ (हे ४, ७०) ।

पयल्ल वि [प्रसृत] फैला हुआ (पात्र) ।

पयल्ल पुं [प्रकलय्] महाग्रह-विशेष (सुज्ज २०) ।

पयल्लि वि [प्रसुमर] फैलनेवाला (कुमा) ।

पयल्लि वि [शैथिल्यकृत्] शिथिल होने-वाला, ढीला होनेवाला (कुमा ६, ४३) ।

पयल्लि वि [लम्बनकृत्] लटकनेवाला (कुमा ६ ४३) ।

पयव सक [प्र + तप्, तापय्] तपाना, गरम करना । पयवेज्ज (से ४, २८) । वक्र. पअविज्जंत (से २, २४) ।

पयव सक [पा] पीना, पान करना । कवक्र. 'धीरग्रं सइमुहल घणपअविज्जंतअं' (से २, २४) ।

पयवई वी [दे] सेना, लश्कर (दे ६, १६) ।

पयवि वी [पदवि] देखो पयवी (चइय ८७२) ।

पयविअ वि [प्रतप्त, प्रतापित] गरम किया हुआ, तपाया हुआ (गा १८५; से २, २५) ।

पयवी वी [पदवी] ? मार्ग, रास्ता (पात्र; गा १०७; सुपा ३७८) । २ विरुद्ध, पक्की (उप पृ ३८६) ।

पयइ सक [प्र + हा] त्यान करना, छोड़ना । पयहे, पयहिज्ज, पयहेज्ज (सुअ १, १०, १५; १, २, २, ११; १, २, ३, ६; उत ४, १२; स १३६) । संक्र. पयहिय (पउम ६३, १६; गच्छ १, २४) । क. पयहियञ्च (स ७१४) ।

पयइ सक [प्र + हा] त्यान करना, छोड़ना । पयहे, पयहिज्ज, पयहेज्ज (सुअ १, १०, १५; १, २, २, ११; १, २, ३, ६; उत ४, १२; स १३६) । संक्र. पयहिय (पउम ६३, १६; गच्छ १, २४) । क. पयहियञ्च (स ७१४) ।

पयहिण देखो पदक्खिण = प्रदक्षिण (भवि) ।

पया सक [प्र + जनय्] प्रसव करना, जन्म देना । पयामि (विपा १, ७) । पयाएज्जात्ति (विपा १, ७) । भवि. पयाहित्ति, पयाहित्ति, पयाहित्ति (कप्प; पि ७६; कप्प) ।

पया सक [प्र + या] प्रयाण करना, प्रस्थान करना । पयाइ (उत्त १३, २४) ।

पया वी [दे] चुल्ही, चुल्हा (राज) ।

पया वी. व. [प्रजा] ? वशवर्ती मनुष्य, दैयत; 'जह य पयाण नरिदो' (उव; विपा

१, १) । २ लोक, जन-समूहः (सिरि ४२; वंचा ७, ३७) । ३ जंतु-समूहः 'निब्विण्ण-चारो अरण पयासु' (आचा; सूत्र १, ५, २, ६) । ४ संतान वाली स्त्री; 'निब्विद नंदि अरण पयासु अमोहदंसी' (आचा; सूत्र १, १०, १५) । ५ संतान, संतति (सिरि ४२) । ०णंद पुं [०नन्द] एक कुलकर पुरुष का नाम (पउम ३, ५३) । ०नाह पुं [०नाथ] राजा, नरेश (सुपा ५७५) । ०पाल पुं [०पाल] एक जैन मुनि जो पाँचवें बलदेव के पूर्वजन्म में गुरु थे (पउम २०, १६२) । ०वइ पुं [०पति] १ ब्रह्मा, विवाता (पात्र; सुपा ३०५) । २ प्रथम वासुदेव के पिता का नाम (पउम २०; १८२; सम १५२) । ३ नक्षत्र-देव-विशेष, रोहिणी-नक्षत्र का अधिपत्यक देव (ठा २, ३—पत्र ७७; सुज्ज १०, १२) । ४ दक्ष, कश्यप आदि ऋषि । ५ राजा, नरेश । ६ सूर्य, रवि । ७ वह्नि, अग्नि । ८ त्वष्टा । ९ पिता, जनक । १० कीट-विशेष । ११ जामाता (हे १, १७७; १८०) । १२ अहो-रात्र का उन्नीसवाँ मूहूर्त्त (सुज्ज १०, १३) ।

पयाइ पुं [पदाति] प्यादा, पाँव से (पेदल) चलनेवाला सैनिक (हे २, १३८; पइ; कुमा; महा) ।

पयाग पुं [प्रयाग] तीर्थ-विशेष, जहाँ गंगा और यमुना का संगम है (पउम ८२, ८१; हे १-१७७) ।

पयाण न [प्रदान] दान, वितरण (उवा; उप ५६७ टी; सुर ४, २१०; सुपा ४६२) ।

पयाण न [प्रतान] विस्तार (भग १६, ६) ।

पयाण न [प्रयाण] प्रस्थान, गमन (आया १, ३; पयह २, १; पउम ५४, २८; महा) ।

पयाम देखो पकाम (स ६५६) ।

पयाम न [दे] अनुपूर्व, क्रमानुसार (दे ६, ६; पात्र) ।

पयाय देखो प्रयाग (कुमा) ।

पयाय वि [प्रयात] जिसने प्रयाण किया हो वह (उप २११ टी; महा; श्रौप) ।

पयाय वि [प्रजात] उत्पन्न, संजात; 'पयाय-साला विडिमा' (दस ७, ३१) ।

पयाय वि [प्रजात, प्रजानित] प्रसूत, जिसने जन्म दिया हो वह; 'दारगं पयाया' (विपा १, ६९

१, २; कप्प; आया १, १—पत्र ३३); 'पयाया पुत्त' (वसु) ।

पयाय देखो पयाव = प्रताप (गा ३२६; से ४, ३०) ।

पयार सक [प्र + चारय] प्रचार करना ।

पयारइ (सण) । संकृ. पयारिवि (अप) (सण) ।

पयार सक [प्र + तारय] प्रतारण करना, ठगना । पयारइ, पयारसि (सण) ।

पयार पुं [प्रकार] १ भेद, किस्म । २ ढंग, रीति, तरह (हे १, ६८; कुमा) ।

पयार पुं [प्राकार] किला, दुर्ग (पउम ३०, ४६) ।

पयार पुं [प्रचार] १ संचार, संचरण (सुपा २४) । २ प्रसार, फैलाव (हे १, ६८) ।

पयार पुं [प्रचार] १ प्रकर्ष-प्राप्ति (दसनि १, ४१) । २ आचरण, आचार (दसनि १, १३५) ।

पयारण न [प्रतारण] वञ्चना, ठगई (सुर १२, ६१) ।

पयारिअ वि [प्रतारित] ठगा हुआ, वञ्चित (पात्र; सुर ४, १५५) ।

पयाल पुं [पाताल] भगवान् अनन्तनाथजी का शासन-यक्ष; 'छम्मुह पयाल किन्नर' (संति ८) ।

पयाय सक [प्र + तापय] तपाना, गरम करना । वकृ. पयावेमाण (पि ५५२) । हेकृ. पयावित्तए (कप्प) ।

पयाव पुं [प्रताप] १ तेज, प्रखरता (कुमा; सण) । २ प्रकट ताप, प्रखर ऊष्मा (पव ४) ।

पयावण न [पाचन] पकवाना, पाक कराना (पयह १, १; था ८) ।

पयावण न [प्रतापन] १ गरम करना, तपाना (श्रीष १८० भा; पिड ३४; आचा) । २ अग्नि (कुप्र ३८६) ।

पयावि वि [प्रतापिन्] १ प्रताप-शाली । २ पुं. इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम (पउम ५, ५) ।

पयास सक [प्र + काशय] १ व्यक्त करना । २ चमकाना । ३ प्रसिद्ध करना । पयासेइ (हे ४, ४५) । वकृ. पयासंत, पयासंत, पयासअंत (सण; गा ४०३; उप

८३३ टी; पि ३६७) । कृ. पयासणिज्ज, पयासियठ्व (उप ५६७ टी; उप पृ ५५) ।

पयास देखो पगास = प्रकाश (पात्र; कुमा) ।

पयास पुं [प्रयास] प्रयत्न; उद्यम (चिइय २६०) ।

पयास (अप) नीचे देखो (भवि) ।

पयासग वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला (सं ७८) ।

पयासण न [प्रकाशन] १ प्रकाश-करण (आचा; सुपा ४१६) । २ वि. प्रकाशक, प्रकाश करनेवाला; 'परमत्थपयासणं वीरं' (पुष्क १) ।

पयासय देखो पयासग (विसे ११३०; सं १; पव ८६) ।

पयासि वि [प्रकाशिन्] प्रकाश करनेवाला (सण; हम्मोर १४) ।

पयासिय देखो पगासिय (भवि) ।

पयासिर वि [प्रकाशितृ] प्रकाश करनेवाला (भवि) ।

पयासंत देखो पयास = प्र + काशय ।

पयाहिण देखो पदक्खिण = प्रदक्षिण (उवा; श्रौप; भवि; पि ६५) ।

पयाहिण देखो पदक्खिण = प्रदक्षिणय ।

पयाहिणइ (भवि) । पयाहिणंति (कुप्र २६३) ।

पयाहिणा देखो पदक्खिणा (सुपा ४७) ।

पययवत्थाण (शौ) न [पर्यवस्थान] प्रकृति में अवस्थान (स्वप्न ४८) ।

पर सक [भ्रम्] भ्रमण करना, घूमना । परइ (हे ४, १६१; कुमा) ।

पर देखो प = प्र (तंडु ४६) ।

पर वि [पर] १ अन्य, भिन्न, इतर (गा ३८४; महा; प्रासु ८; १५७) । २ तत्पर, तल्लीन; 'कोज्जहलपरा' (महा; कुमा) । ३ श्रेष्ठ, उत्तम, प्रवान (आचा; रयण १५) । ४ प्रकर्ष-प्राप्त, प्रकट (आचा; था २३) । ५ उत्तरवर्ती, वाद का; 'परलोग—' (महा) । ६ दूरवर्ती (सूत्र १, ८; निचू १) । ७ अनात्मीय, अस्वीय (उत्त १; निचू २) । ८ पुं. शत्रु, दुश्मन, रिपु (सुर १२, ६२; कुमा; प्रासु ६) । ९ न. केवल, फक्त (कुमा; भवि) । ० उट्टु वि [०पुट्ट] अन्य-से पालित । २ पुं. कोकिल पक्षी (हे १, १७६) । ० उत्थिय वि

[<sup>०</sup>तीर्थिक] भिन्न दर्शनवाला (भग) । <sup>०</sup>एस पुं [<sup>०</sup>देश] विदेश, भिन्न, अन्य देश (भवि) । <sup>०</sup>ओ अ [<sup>०</sup>तस् ] १ वाद में, परली—दूसरी तरफ; 'अडवीए परओ' (महा) । २ भिन्न में, इतर में (कुमा) । ३ इतर से, अन्य से (सूय १, १२) । <sup>०</sup>गणिच्चय वि [<sup>०</sup>गणीय] भिन्न गण से संबन्ध रखनेवाला । स्त्री. <sup>०</sup>चिया (निचू ८) । <sup>०</sup>गरिहंभाण न [<sup>०</sup>गर्हाध्यान] इतर की निन्दा का विचार (आउ) । <sup>०</sup>वाय पुं [<sup>०</sup>वात] १ दूसरे को आघात पहुँचाना । २ पुंन. कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव अन्य बलवानों की भी दृष्टि में अजेय समझा जाता है वह कर्म; 'परधाउदया पाणी परेसि बलीएणि होइ दुद्धरितो' (कम्म १. ४४) । <sup>०</sup>चित्तणु वि [<sup>०</sup>चित्तज्ञ] अन्य के मन के भाव को जाननेवाला (उप १७६ टी) । <sup>०</sup>च्छंद, <sup>०</sup>छंद पुं [<sup>०</sup>च्छन्द] १ पर का अभिप्राय, अन्य का आशय (ठा ४, ४; भग २५, ७) । २ पराधीन, परतन्त्र (राज; पाग्र) । <sup>०</sup>जाणुअ वि [<sup>०</sup>ज्ञ] १ पर को जाननेवाला । २ प्रकृष्ट जानकार (प्राकृ १८) । <sup>०</sup>ट्ट पुं [<sup>०</sup>र्थ] परोपकार (राज) । <sup>०</sup>ट्टा स्त्री [<sup>०</sup>र्थ] दूसरे के लिए; 'कडं परट्टाए' (आचा) । <sup>०</sup>णिदंभाण न [<sup>०</sup>निन्दाध्यान] अन्य की निन्दा का चिन्तन (आउ) । <sup>०</sup>णुअ देखो <sup>०</sup>जाणुअ (प्राकृ १८) । <sup>०</sup>तंत वि [<sup>०</sup>तन्त्र] पराधीन, परायत्त (सुपा २३३) । <sup>०</sup>तिस्थिअ देखो <sup>०</sup>उत्थिय (भग; सम्म ८५) । <sup>०</sup>तीर न [<sup>०</sup>तीर] सामनेवाला किनारा (पाग्र) । <sup>०</sup>त्त न [<sup>०</sup>त्व] १ भिन्नत्व, पार्थक्य । २ वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध गुण-विशेष (विसे २४६१) । <sup>०</sup>त्त अ [<sup>०</sup>त्र] १ जन्मान्तर में, परलोक में (सुपा ५०८) । २ न. जन्मान्तर; 'ते इहएणि परत्ते नरयगई जंति नियमेण' (सुपा ५२१), 'इह लोए चिय दीसइ सगो नरओ य कि परत्तेण (बजा १३८) । <sup>०</sup>त्थ अ [<sup>०</sup>त्र] जन्मान्तर में, 'इहं परत्थावि य जं विरुद्धं न किज्जेए तं पि सया निसिदं' (सत्त ३७; सुर १४, ३३; उव) । <sup>०</sup>त्थ देखो <sup>०</sup>ट्ट (सुर ४, ७३) । <sup>०</sup>त्थी स्त्री [<sup>०</sup>त्थी] परकीय स्त्री (प्राकृ १५५) । <sup>०</sup>दार पुंन [<sup>०</sup>दार] परकीय स्त्री (पडि); 'जो बजइ परदारं सो सेवइ नो कयाइ

परदार' (सुपा ३६६), 'दव्वेए अप्पकालं गहिया वेसावि होइ परदारं' (सुपा ३८०) । <sup>०</sup>दारि वि [<sup>०</sup>दारिन्] परस्त्री-सम्पत्; 'ता एस वसुमईए कएण परदारियाए आवाओ' (सुर ६, १७६) । <sup>०</sup>पक्ख वि [<sup>०</sup>पक्ष] वैवर्तिक, भिन्न धर्म का अनुयायी (द्र १७) । <sup>०</sup>परिवाइय वि [<sup>०</sup>परिवादिक] इतर के दोषों को बोलनेवाला, पर-निन्दक (श्रौप) । <sup>०</sup>परिवाय पुं [<sup>०</sup>परिवाद] १ पर के गुण-दोषों का विप्रकीर्ण वचन (श्रौप; कप्प) । २ पर-निन्दा, इतर के दोषों का परिकीर्तन (ठा १; ४, ४) । ३ अन्य के सदगुणों का अपलाप (पंचू) । <sup>०</sup>परिवाय पुं [<sup>०</sup>परिपात] अन्य का पातन, दोषों-द्वारा दूसरे को गिराना (भग १२, ५) । <sup>०</sup>पुट्ट देखो <sup>०</sup>उट्ट (पएण १७; स ४१६) । <sup>०</sup>भव पुं [<sup>०</sup>भव] आगामी जन्म (श्रौप; पएह १, १) । <sup>०</sup>भविअ वि [<sup>०</sup>भविक] आगामी जन्म से संबन्ध रखनेवाला (भग; ठा ६) । <sup>०</sup>भाग पुं [<sup>०</sup>भाग] १ श्रेष्ठ अंश । २ अन्य का हिस्सा । ३ अत्यन्त उत्कृष्ट (उप पृ ६७) । <sup>०</sup>महेला स्त्री [<sup>०</sup>महेला] १ उत्तम स्त्री । २ परकीय स्त्री (सुपा ४७०) । <sup>०</sup>यत्त देखो <sup>०</sup>यत्त, <sup>०</sup>परयत्तो परदंढो (पाग्र) । <sup>०</sup>लोक, <sup>०</sup>लोक पुं [<sup>०</sup>लोक] १ इतर जन, स्वजन से भिन्न (उप ६८६ टी) । २ जन्मान्तर (पएह १, २; विसे १६५१; महा; प्राकृ ७५; सए) । <sup>०</sup>वस वि [<sup>०</sup>वश] पराधीन, परतन्त्र (कुमा; सुपा २३७) । <sup>०</sup>वाइ पुं [<sup>०</sup>वादिन्] इतर दार्शनिक (श्रौप) । <sup>०</sup>वाय पुं [<sup>०</sup>वाद] १ इतर दर्शन, भिन्न मत (श्रौप) । २ श्रेष्ठ वादी (आ २३) । <sup>०</sup>वाय पुं [<sup>०</sup>वाच् ] १ सज्जन, सुजन । २ वि. श्रेष्ठ वाणीवाला (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>वाज] १ श्रेष्ठ गतिवाला । २ पुं. श्रेष्ठ अथ (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>वाय] जानकार, ज्ञानी (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>पाक] १ सुन्दर रसोई बनानेवाला । २ पुं. रसोइया (आ २३) । <sup>०</sup>वाय पुं [<sup>०</sup>पात] १ जुआड़ी, जुए का खेलाड़ी । २ अशुभ समय (आ २३) । <sup>०</sup>वाय पुं [<sup>०</sup>व्याद] ग्राहण, विप्र (आ २३) । <sup>०</sup>वाय पुं [<sup>०</sup>वाय] बनी जुलाहा, वनाब्ध तन्तुवाय

(आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>व्रात] १ प्रकृष्ट समूहवाला । २ न. सुभिक्ष समय का वाय (आ २३) । <sup>०</sup>वाय पुं [<sup>०</sup>वात] शीघ्र समय का जलवि-न्त (आ २३) । <sup>०</sup>वाय पुं [<sup>०</sup>व्याच] घूँत, ठग (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>पाय] अनीतिवाला (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>वाक] वेदज्ञ, वेदविद् (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>पाट] १ दयालु, कारुणिक । २ खूब पान करनेवाला । ३ खूब सूखनेवाला । ४ पुं. पाट्ट काल का यवास वृक्ष । ५ मय-व्यसनी (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>वाद] सुस्विर (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>व्याट] १ श्रेष्ठ आच्छादक । २ पुं. वक्ष, कपड़ा (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>वाट] १ प्रकृष्ट बहन करनेवाला । २ पुं. श्रेष्ठ तन्तुवाय, उत्तम जुलाहा । ३ महान् पवन (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>व्यागस् ] १ अति बड़ा अपराधी, गुल्तर अपराधी (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>व्याप] प्रकृष्ट विस्तारवाला (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>वाक] १ जहाँ पर प्रकृष्ट वक-समूह हो वह स्थान । २ न. मत्स्य-परिपूर्ण सरोवर (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>व्याय] १ श्रेष्ठ वायुवाला । २ जहाँ पर पक्षियों का विशेष आगमन होता हो वह । ३ पुं. अनुकूल पवन से चलता जहाज । ४ सुन्दर घर । ५ वनोद्देश, वन-प्रदेश (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>वाय] १ जहाँ पानी का प्रकृष्ट आगमन हो वह । २ न. जलवि-मुख, समुद्र का मुँह । ३ पुं. महासमुद्र, महासागर (आ १३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>व्याज] अन्य के पास-विशेष गमन करनेवाला । २ प्राथना-परायण (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>पाय] १ अत्यन्त हीन-भाग्य । २ नित्य-दरिद्र (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>वाप] १ प्रकृष्ट वपनवाला । २ पुं. कृपक (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>पाप] १ महापापी । २ हत्या करनेवाला (आ २३) । <sup>०</sup>वाय पुं [<sup>०</sup>पाक] १ कुम्भकार, कुम्हार । २ मुक्त जीव । ३ पहली तीन नरक-भूमि (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>पाग] वृक्ष-रहित, वृक्ष-वर्जित (आ २३) । <sup>०</sup>वाय वि [<sup>०</sup>वाज] शत्रु-नाशक (आ २३) । <sup>०</sup>वाय पुं [<sup>०</sup>पाद] महान् वृक्ष,

वडा पेड़ (श्रा २३)। °वाय वि [°पात्] प्रकृष्ट पैरवाला (श्रा २३)। °वाय वि [°वाच] फलित शालि (श्रा २३)। °वाय वि [°वाप] १ विशेष भाव से शत्रु की चिन्ता करनेवाला। २ पुं. मन्त्री, अमात्य। ३ सुभट, योद्धा (श्रा २३)। °वाय वि [°पात] आपात-सुन्दर, जो प्रारम्भ में ही सुन्दर हो वह (श्रा २३)। °वाय वि [°त्राय] श्रेष्ठ विवाहवाला (श्रा २३)। °वाय वि [°पाय] श्रेष्ठ रक्षावाला, जिसकी रक्षा का उत्तम प्रबन्ध हो वह। २ अत्यन्त प्यासा। ३ पुं. राजा, नरेश (श्रा २३)। °वाय वि [°व्यात] १ इतर के पास विशेष वमन करनेवाला। २ पुं. भिक्षुक, याचक (श्रा २३)। °वाय वि [°पायस्] १ दूसरे की रक्षा के लिए हथियार रखनेवाला। २ पुं. सुभट, योद्धा (श्रा २३)। °वाया स्त्री [°व्याजा] वेश्या, वारांगना (श्रा २३)। °वाया स्त्री [°व्यागस्] असती, कुलटा (श्रा २३)। °वाया स्त्री [°व्यापा] अन्तिम समुद्र की स्थिति (श्रा २३)। °वाया स्त्री [°पाता] घृत्त-मैत्री (श्रा २३)। °वाया स्त्री [°त्राया] नृप-कन्या (श्रा २३)। °वाया स्त्री [°पागा] मरु-भूमि (श्रा २३)। °वाया स्त्री [°वाच्] कश्मीर-भूमि (श्रा २३)। °वाया स्त्री [°वाज्] नृप-स्थिति (श्रा २३)। °वाया स्त्री [°पात्] शतपदी, जन्तु-विशेष (श्रा २३)। °वाया स्त्री [°व्यावा] मेरी, वाद्य-विशेष (श्रा २३)। °विएस पुं [°विदेश] परदेश, विदेश (पउम ३२, ३६)। °वस देखो वस (पङ्. गा २६५; भवि)। °संतिग वि [°सत्क] पर-संवन्धी, परकीय (पएह १३)। °समय पुं [°समय] इतर दर्शन का सिद्धान्त; 'जावइया नयवाया तावइया चैव परसमया' (सम्म १४४)। °हुअ वि [°भूत] १ दूसरे से पुष्ट, अन्य से पालित (प्राप्र)। २ पुं. कोयल, पिक पक्षी (कम्प)। स्त्री. °आ (सुर ३, ५४; पात्र)। °घाय देखो °घाय (प्रासू १०४; सम ६७)। °धीण देखो °हीण (धर्मवि १३६)। °यत्त वि [°यत्त] पराधीन, परतन्त्र (पउम ६४,

३४; उप पृ १२२; महा)। °हीण वि [°धीन] परतन्त्र, परायत्त (नाट—मालवि २०)।

परं देखो परा = अ (श्रा २३; पउम ६१, ८)।

परं अ [परम्] १ परन्तु, किन्तु; 'जं तुमं आणवेसित्ति, परं तुह दूरे नयरं' (महा)।

२ उपरान्त; 'नो से कण्पइ एत्तो वाहि; तेण परं, जत्य नाएदसणचरित्ताइ उस्संपत्ति त्ति वेमि' (कस १, ५१; २, ४—७; ४, १२—२६)।

३ केवल, फक्त; 'एस मह संतावो, परं माणंससमरमज्जणेण जइ अवगच्छइत्ति' (महा)।

परं अ [परन्] आगामी वर्ष, 'अज्जं कल्लं परं परारिं' (वे २), 'अज्जं परं परारिं पुरिसा चित्तंति अत्यसंपत्ति' (प्रासू ११०)।

परंग सक [परि + अङ्ग] चलना, गति करना। कवक. परंगिज्जमाण (श्रीप)।

परंगमण न [पर्यङ्गन] पांव से चलना, चंक्रमण (श्रीप)।

परंगामण न [पर्यङ्गन] चलाना, चंक्रमण कराना (भग ११, ११—पत्र ५४४)।

परंतम वि [परतम] अन्य को हैरान करनेवाला (ठा ४, २—पत्र २१६)।

परंतम वि [परतमस्] १ अन्य पर क्रोध करनेवाला। २ अन्य-विषयक अज्ञान रखनेवाला (ठा ४, २—पत्र २१६)।

परंतु अ [परन्तु] किन्तु (सुपा ४६६)।

परंदम वि [परन्दम] १ अन्य को पीडा पहुँचाने वाला (उत्त ७, ६)। २ अन्य को शान्त करनेवाला। ३ अश्व आदि को सिखानेवाला (ठा ४, २—पत्र २१३)।

परंपर } वि [परम्पर] १ भिन्न-भिन्न परंपरग } (खंदि)। २ व्यवहित; 'परंपर-परंपरयं सिद्धं—' (पएण १; ठा २, १; १०)। ३ पुं. परम्परा, अविच्छिन्न धारा (उप ७३३), 'पुरिसपरंपरएण तेहिं इट्ठगा आणिया', 'एस दव्वपरंपरयो' (आव १), 'परंपरेण' (कम्प; धर्मसं ५३१; १३०६)।

परंपरा स्त्री [परम्परा] १ अनुक्रम, परिपाटी (भग; श्रीप; पात्र)। २ अविच्छिन्न धारा, प्रवाह (प्राया १, १)। ३ निरन्तरता, अव्यवधान (भग ६, १)। ४ व्यवधान, अन्तर;

'अणंतरोववएणा चैव परंपरोववएणा चैव' (ठा २, ३; भग १३, १)।

परंभरि वि [परम्भरि] दूसरे का पेट भरनेवाला (ठा ४, ३—पत्र २४७)।

परंमुह वि [पराङ्मुख] मुंह-फिरा, विमुख (पि २६७)।

परकीअ वि [परकीय] अन्य-सम्बन्धी, इतर परकेर } से सम्बन्ध रखनेवाला (वित्ते ४१; परक } सुपा ३४६; अमि १५१; पङ्; स्वप्न ४०; स २०७; पङ्), 'न तेवियव्वा पमया परक्का' (गोय १३)।

परक न [दे] छोटा प्रवाह (दि ६, ८)।

परकंत वि [पराक्रान्त] १ जिसने पराक्रम किया हो वह। २ अन्य से आक्रान्त; 'गामा-णुगामं दूइज्जमाणस्स दुज्जायं दुप्परकंतं भवइ' (आचा)। ३ न. पराक्रम, बल। ४ उद्यम, प्रयत्न। ५ अनुष्ठान; 'जे अयुद्धा महाभागा वीरा असम्मत्तदंसियो, असुद्धं तेसि परकंतं' (सुप्र १, ८, २२)।

परकम अक [परा + क्रम्] पराक्रम करना। परकमे, परकमेज्जा, परकमेज्जासि (आचा)। वक. परकमंत, परकममाण (आचा)। क. परकमियन्व, परकम्म (प्राया १, १; सुप्र १, १, १)।

परकम सक [परा + क्रम्] १ जाना। २ आसेवन करना। ३ अक. प्रवृत्ति करना। परकमे (दस ५, १, ६)। परकमिज्जा (दस ८, ४१)। संक. परकम्म (दस ८, ३२)।

परकम पुं [पराक्रम] गतं आदि से भिन्न मार्ग (दस ५, १, ४)।

परकम पुंन [पराक्रम] १ वीर्य, बल, शक्ति, सामर्थ्य (वित्ते १०४६; ठा ३, १; कुमा), 'तस्स परकमं गीयमाणं न तए सुयं' (सम्मत्त १७६)। २ उत्साह। ३ चेष्टा, प्रयत्न (आचू १; प्रासू ६३; आचा)। ४ शत्रु का नाश करने की शक्ति (जं ३)। ५ पर-आक्रमण, पर-पराजय (ठा ४, १; आवम)। ६ गमन, गति (सुप्र २, १, ६)। ७ मार्ग (दश० अ० नू० सू० ८६)।

परकमि वि [पराकमिन्] पराक्रम-संपन्न (धर्मवि १६; १२०)।

परग न [दे. परक] १ तृण-विशेष, जिससे फूल गूँथे जाते हैं (आचा २, २, ३, २०; सूत्र २, २, ७)। २ घान्य-विशेष (सूत्र २, २, ११)।

परग वि [पारग] परग तृण का बना हुआ (आचा २, १, ११, ३; २, २, ३, १४)।

परगासय वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला (तंडु ४६)।

परग्व वि [परार्थ] महर्ष, महंगा, बहुमूल्य (दस ७, ४३)।

परज्ज (अप) सक [परा + जि] पराजय करना; हराना। परज्जइ (भवि)।

परज्जिय (अप) वि [पराजित] पराजय-प्राप्त, हराया हुआ (भवि)।

परज्झ वि [दे] १ पर-वय, परावीन, परतन्त्र; 'जेसंखया; तुच्छपरपवाई ते पेज्ज-वोसाणुणया परज्झा' (उत्त ४, १३ वृह ४)। २ पुंन. परतन्त्रता, परावीनता (ठा १०—पत्र ५०५; भग ७, ८—पत्र ३१४)।

परद्व देखो परिअट्ट = परिवर्त (जीवस २५२; पव १६२; कम्म ५, ५६)।

परडा लो [दे] सर्व-विशेष (दे ६, ५), 'उच्चारं कुणमाणो अपाणुदेसम्मि गत्व-परडाए, दद्धे पीडाए मग्गो' (सुपा ६२०)।

परदारिअ पुं [पारदारिक] परलो-लम्पट (पउम १०५, १०७)।

परद्व वि [दे] १ पीडित, दुःखित (दे ६, ७०; पात्र; सुर ७, ४; १६, १४४; उप पृ २२०; महा)। २ पतित। ३ नीर, डरपोक (दे ६, ७०)। ४ व्याप्त; 'जोइ परद्वो जीवा न दोसणुणदंविणो होति' (धम्मो १४)।

परप्पर देखो परोप्पर (पि ३११; नाट—मालती १६८)।

परवभवमाग देखो पराभव = परा + भू।

परभत्त वि [दे] भीर, डरपोक (पड)।

परभाअ पुं [दे] सुरत, मैथुन (दे ६, २७)।

परम वि [परम] १ उच्छ्रित, सर्वाधिक (सूत्र १, ६; जो ३७)। २ उत्तम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ (पंचव ४; धर्म ३; कुमा)। ३ अत्यर्थ, अत्यन्त (परह १, ३; भग; औप)। ४ प्रधान, मुख्य (आचा; दस ६, ३)। ५ पुं.

मोक्ष, मुक्ति। ६ संयम, चारित्र्य (आचा; सूत्र १, २)। ७ न. सुख (दस ४)। ८ लगातार पांच दिनों का उपवास (संबोध ५८)। ९ पुं [पार्थ] १ सत्य पदार्थ, वास्तविक चीज; 'अयं परमद्वे सेते अणद्वे' (भग; धर्म १)। २ मोक्ष, मुक्ति (उत्त १८; परह १, ३)। ३ संयम, चारित्र्य (सूत्र १, ६)। ४ पुंन. देखो नीचे 'त्य = तयं; 'परमद्वनिद्विअट्टा' (पडि, धर्म २)। ०ण देखो 'न्न (सम १५१)। 'त्य पुंन [पार्थ] १ सत्य, सत्य, 'तत्तं परमद्वं' (पात्र), 'परमद्वो' (अभि ६१)। २—४ देखो 'द्व (सुपा २४; ११०; सण; प्रातू १६४; महा)। 'त्य न [पार्थ] सर्वोत्तम हृदियार, अमोघ अन्न (से १, १)। 'दंसि वि [दर्शिन] १ मोक्ष देखनेवाला। २ मोक्ष-मार्ग का जानकार (आचा)। 'न्न न [पार्थ] १ खीर, दुग्ध-प्रधान मिष्ट भोजन (सुपा ३६०)। २ एक दिन का उपवास (संबोध ५८)। 'पय न [पद] मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति (पात्र; भवि; अजि ४०; पंचा १४)। 'पय पुं [पार्थ] सर्वोत्तम आत्मा, परमेस्वर (कुमा; सुपा ८३; खण ४३)। 'पय देखो 'पय (सुपा १२७)। 'पय देखो 'पय (भवि)। 'पय लो [पार्थ] मुक्ति, मोक्ष; 'सेलेत्ति अरुहिं अरुत्तिसुरी परमपयं पत्तो' (सुपा १२७)। 'वोधिसत्त पुं [वोधिसत्त] परमाहंत, अहंत देव का परम भक्त (मोह ३)। 'संखिज्ज न [संख्येय] संख्या-विशेष (कम्म ४, ७१)। 'सोमणस्सिय वि [सौमनस्यित] सर्वोत्तम मनवाला, संतुष्ट मनवाला (औप; कप्प)। 'सोमणस्सिय वि [सौमनस्यिक] वही अर्थ (औप; कप्प)। 'हेला लो [हेला] उच्छ्रित विस्कार (सुपा ४७०)। 'उ न [पार्थ] १ लम्बा आयुष्य, बड़ी उमर (पउम १०, ७)। २ जीवित काल, उमर (विपा १, १)। 'णु पुं [पार्थ] सर्व-सूक्ष्म वस्तु (भग; गउड)। 'हिम्मिय [पार्थ] असुर-विशेष, नारक जीवों को दुःख देनेवाले देवों की एक जाति (सम २८)। 'होहिअ वि [पार्थ] अविज्ञान-विशेषवाला, ज्ञान-विशेष (भग)।

परमाहिम्मिय वि [परमधार्मिक] सुख का आनंदापी (दस ४, १)।

परमिट्ठि पुं [परमेट्टिन] १ ब्रह्मा, चतुससन (पात्र; सम्मत ७८)। २ अहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि (सुपा ६५; आप ३८; नण ६; निमा २०)।

परमुक्क वि [परामुक्क] परित्यक्त (पउम ७१, २६)।

परमुक्कारि } वि [परमोपकारिन्] बड़ा  
परमुक्कारि } उपकार करनेवाला (सुर २, ४२; २, ३७)।

परमुह देखो परमुह (से २, १६)।

परमेट्ठि देखो परमिट्ठि (कुमा; भवि; चैद्य ४६६)।

परमेसर पुं [परमेश्वर] सर्व-धर्म-संपन्न, परमात्मा (सम्मत १४४; भवि)।

परमुह वि [पराङ्मुख] विमुख, मुंह-फिरा, उदासीन (खाया १, २; कात्र ७२३; गा ६८८)।

परय न [परक] आधिक्य, अतिराप (उत्त ३४, १४)।

परलोइअ वि [पारलौकिक] जन्मान्तर-संबन्धी (आचा; सम ११६; परह १, ५)।

परवाय वि [प्रवाज] १ प्रकृत शब्द से प्रेरणा करनेवाला। २ पुं. सारथि, रथ हांकेनेवाला (आ २३)।

परवाय वि [प्रारवाय] १ श्रेष्ठ गाना गानेवाला। २ पुं. उत्तम गवैया (आ २३)।

परवाय पुं [प्ररपाज] नाज (अन्न) नरने का कोठा, वह घर जहाँ नाज संगृहीत किया जाता है, कोठार, बखार (आ २३)।

परवाया लो [प्ररवाप्] गिरि-नदी, पहाड़ी नदी (आ २३)।

परस (अप) देखो फास = स्पशं (पिग; भवि)। 'मणि पुं [मणि] रत्न-विशेष, जिसके रत्नों से लोहा सुवर्ण होता है (पिग)।

परसण्ण (अप) देखो पसण्ण (पिग)।

परसु पुं [परशु] अस्त्र-विशेष, परश्वर, कुठार, कुल्हाड़ी (भग ६, ३३; प्रातू ६; ६२; काल)। 'राम पुं [राम] जमदग्नि ऋषि का पुत्र, जिसने इक्ष्वाकु वार निःशयिय पृथिवी की थी (कुमा; पि २०८)।

परमुहत्त पुं [दे] वृक्ष, पेड़, दरख्त (दे ६, २६) ।

परस्सर पुंजी [दे.पराशर] गंडा, पशु-विशेष (पण १; राज) । स्त्री. री (पण ११) ।

परहुत्त वि [पराभूत] पराजित, हराया गया (पउम ६१, ८) ।

परा अ [परा] इन श्रवों का सूचक श्रव्यय—

१ आभिमुख्य, संमुखता । २ त्याग । ३ धर्षण । ४ प्राधान्य, मुख्यता । ५ विक्रम । ६ गति, गमन । ७ भङ्ग । ८ अनादर । ९ विस्कार । १० प्रत्यावर्तन (हे २, २१७) ।

११ श्रय, अत्यंत (ठा ३, २; आ २३) ।

परा स्त्री [दे. परा] वृण-विशेष (पण २, ३—पत्र १२३) ।

पराइ सक [परा + जि] हराना, पराजय करना । संकृ. पराइइत्ता (सूत्रनि १६६) ।

पराइअ वि [पराजित] पराभव-प्राप्त (पउम २, ८६; श्रौष; स ६३४; सुर ६, २५; १३, १७१; उत ३२, १२) ।

पराइअ (अप) वि [परागत] गया हुआ (भवि) ।

पराइण देखो पराजिण । पराइणइ (पि ४७३; भग) ।

पराई स्त्री [परकीया] इतर से संबन्ध रखने-वाली, वह नायिका जो परपुरुष से प्रेम करे (हे ४, ३५०; ३६७) । देखो पराय = परकीय ।

पराक्रम देखो परक्रम (सूत्र २, १, ६) ।

पराकय वि [पराकृत] निराकृत, निरस्त (श्रज्क ३०) ।

पराकर सक [परा + कृ] निराकरण करना । पराकरोदि (शौ) (नाट—चैत ३५) ।

पराजय पुं [पराजय] परिभव, अभिभव, हार (राज) ।

पराजय } सक [परा + जि] पराजय पराजिण } करना, हराना । भूका. पराजयित्वा (पि ५१७) । भवि. पराजिणित्सइ (पि ५२१) । संकृ. पराजिणिता (ठा ४, २) । हेकृ. पराजिणित्तए (भग ७, ६) ।

पराजिणअ } देखो पराइअ = पराजित पराजिय } (उप पृ ५२; महा) ।

पराण देखो पाण = प्राण (नाट—चैत ५४; पि १३२) ।

पराणग वि [परकीय] अन्य का; दूसरे का; 'जत्य हिरण्यसुवर्णं हत्येण पराणगं पि नो छिष्ये' (गच्छ २, ५०) ।

पराणिय वि [पराणीत] पहुँचा हुआ (भवि) ।

पराणी सक [परा + णी] पहुँचाना । पराणए (भवि) । पराणेमि (स २३४); 'जइ भणसि ता निमेषमित्तेण तुमं तायमंदिंरं पराणेमि' (कुप्र ६०) ।

पराणयण न [पराणयन] पहुँचाना; 'नियम-गिणीपराणयणे का लजा, अवि य ऊसवो एस' (उा ७२८ टी) ।

पराभव सक [परा + भू] हराना । कवकृ. पराभविज्जंत, पराभवमाण (उप ३२० टी; णाया १, २; १८) ।

पराभव पुं [पराभव] पराजय, हार (विपा १, १) ।

पराभविअ वि [पराभूत] अभिभूत, हराया हुआ (धर्मवि ६८) ।

परामट्ट देखो परामुट्ट (पउम ६८, ७३) ।

परामरिस सक [परा + मृश] १ विचार करना, विवेचन करना । २ स्पर्श करना । परामरिसइ (भवि) । कवकृ. परामरिसंत (भवि) । संकृ. परामरिसिअ (नाट—मृच्छ ८७) ।

परामरिस पुं [परामर्श] १ विवेचन, विचार (प्राप्ता) । २ युक्ति, उपत्ति । ३ स्पर्श । ४ न्याय-शास्त्रोक्त व्याप्ति-विशिष्ट रूप से पक्ष का ज्ञान (हे २, १०५) ।

परामिट्ट } वि [परामृष्ट] १ विचारित, परामुट्ट } विवेचित । २ स्पृष्ट, छुआ हुआ (नाट—मृच्छ ३३; हे १ १३१; स १००; कुप्र ५१) ।

परामुस सक [परा + मृश] १ स्पर्श करना, छूना । २ विचार करना, विवेचन करना । ३ आच्छादित करना । ४ पोंछना । ५ लोप करना । परामुसइ (कस) । कर्म. 'सुरो परामुसिज्जइ णामिमुहुन्निक्कत्तवृत्तिहि' (उवर १२३) । कवकृ. 'नियवत्तरिज्जेण नयणाइ परामुसतेण भणियं' (कुप्र ६६) । कवकृ. परामुसिज्जमाण (स ३४६) ।

परामुसिय देखो परामुट्ट (महा; पात्र) ।

पराय अक [प्र + राज] विशेष शोभना । कवकृ. परायंत (कम्प) ।

पराय पुं [पराग] १ घृती, रज; 'रिणु पंसु रओ पराओ य' (पात्र) । २ पुष्प-रज (कुमा; गउड) ।

पराय } वि [परकीय] पर-संबन्धी, इतर परायण } से संबन्ध रखनेवाला; 'नो श्रमणा पराया गुत्थो कइयावि हंति सुद्धएण' (सट्ठि १०५; हे ४, ३७६; भग ८; ५) ।

परायण वि [परायण] तत्पर (कम्म १, ६१) ।

परारि अ [परारि] आगामी तीसरा वर्ष (प्रासू ११०; वै २) ।

पराल देखो पलाल (प्रासू १३८) ।

पराय (अप) सक [प्र + आप्] प्राप्त करना । परावहि (हे ४, ४४२) ।

परावत्त अक [परा + वृत्] १ बदलना; पलटना । २ पीछे लौटना । परावत्तइ (उवर ८८) । कवकृ. परावत्तमाण (राज) ।

परावत्त सक [परा + वर्तय्] १ फिराना । २ आवृत्ति करना । परावत्तंति (पव ७१); परावत्तसि (मोह ४७) । संकृ. 'तो सापरेण भणियं अरे परावत्तिऊण निययरहं' (कुप्र ३७८) ।

परावत्त पुं [परावर्त] परिवर्तन, हेरफेर, हेराफेरी (स ६२; उप पृ. २७; महा) ।

परावत्ति वि [परावर्तिन्] परिवर्तन करने-वाला; 'वैसपरावत्तिणी गुलिया' (महा) ।

परावत्ति स्त्री [परावृत्ति] परिवर्तन, हेराफेरी (उप १०३१ टी) ।

परावत्तिय वि [परावर्तित] परिवर्तित, बदला हुआ (महा) ।

परासर पुं [पराशर] १ पशु-विशेष (राज) । २ श्रवि-विशेष (श्रौष; गा ८६२) ।

परासु वि [परासु] प्राण-रहित, मृत (धा १४; धर्मसं ६७) ।

पराहव देखो पराभव = पराभव (गुण ६) ।

पराहुत्त वि [दे. पराइमुख] विमुख, मुँह-फिरा (ग २४५; से १०, ६४; उप पृ ३८८; श्रौष ५१४; वज्जा २६), 'महविणयपराहुत्तो' (पउम ३३, ७४; सुख २, १७) ।



पराहुत्त } वि [पराभूत] अग्निभूत, हराया  
पराहुत्त } हुआ (उप ६४८ टी; पात्र) ।

परि अ [परि] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ सर्वतोभाव, समतात्, चारों ओर (गा २२;  
सूत्र १, ६) । २ परिपाटी, क्रम (पिंग) ।  
३ पुनः पुनः; फिर फिर (पएह १, १;  
आवक २८४) । ४ सामीप्य, समीपता;  
(गडड ७७६) । ५ विनिमय, बदला; 'परि-  
याण' = परिदान ( भवि ) । ६ अतिशय,  
विशेष (स ७३४) । ७ संपूर्णता; 'परिद्विष्ट'  
(पव ६६) । ८ वाहरपन (आवक २८४) ।  
९ ऊपर (हे २, २११; सुपा २६६) । १०  
शेष, बाकी । ११ पूजा । १२ व्यापकता ।  
१३ उपरम, निवृत्ति । १४ शोक । १५  
किसी प्रकार की प्राप्ति । १६ आह्वान । १७  
संतोष-भाषण । १८ भूपण, अलंकरण ।  
१९ आलिंगन । २० नियम । २१ वर्जन,  
प्रतिषेध (हे २, २१७; भवि; गडड) । २२  
निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है (गडड  
१०; सण) ।

परि देखो पडि = प्रति (ठा ५, १—पत्र  
३०२; पएण १६—पत्र ७७४; ७८१) ।

परि छी [दे] गीति, गीत (कुमा) ।

परि सक [क्षिप्] फेंकना । परिइ (पड्) ।

परिअंज सक [परि + भञ्ज्] भांगना,  
तोड़ना । परिअंजइ (धात्वा १४३) ।

परिअंत सक [द्विष्] १ आलिंगन करना ।  
२ संसर्ग करना । परिअंतइ (हे ४, १६०) ।

परिअंत देखो पज्जंत (पएह १, ३; पउम ६५,  
१६; सूत्र २, १, १५) ।

परिअंतणा छी [परियन्त्रणा] अतिशय  
यन्त्रणा (नाट—मालती २८) ।

परिअंतिअ वि [द्विष्ट] आलिंगित (कुमा) ।

परिअंभिअ वि [परिजुम्भित] विकसित (से  
२, २०) ।

परिअट्ट अक [परि + वृत्] पलटना, बद-  
लना । वक. 'दिट्ठो अपरिअट्टीए सहया-  
रच्छायाए एत्तो' (कुप्र ४५; महा), परियट्ट-  
माण (महा) ।

परिअट्ट सक [परि + वर्तय्] १ पलटना,  
बदलाना । २ आवृत्ति करना, पठित पाठ को

याद करना । ३ फिराना, घुमाना । परियट्टइ,  
परियट्टइ (भवि; उव) । हेक. 'परियट्टिउ-  
माडत्तो नलियोमुम्मं ति अज्जकयणं' (कुप्र  
१७३) ।

परिअट्ट सक [परि + अट्] परिअमण  
करना, घुमाना । परिअट्टइ (हे ४, २३०) ।  
संक. परियट्टिवि (अप) (भवि) ।

परिअट्ट पुं [दे] खनक, घोड़ी (दे ६, १५) ।

परिअट्ट पुं [परिवर्त] १ पलटना, बदला ।

२ समय का परिणाम-विशेष, अनन्त उत्सर्पणी  
और अन्तर्पणी काल (विपा १, १; सुर १६,  
१४५; पव १६२) ।

परिअट्टा वि [परिवर्तक] परिवर्तन करने-  
वाला (निचू १०) ।

परिअट्टा न [परिवर्तन] १ पलटना, बदला  
करना (पिड ३२४; वै ६७) । २ द्विगुण,  
त्रिगुण आदि उपकरण (आचा १, २, ३,  
१) ।

परिअट्टा ली [परिवर्तना] १ फिर फिर  
होना (पएह १, १) । २ आवृत्ति, पठित  
पाठ का आवर्तन (आचा २, १, ४, २; उत्त  
२६, १; ३०, ३४; श्रौप; ठा ५, ३) । ३  
द्विगुण आदि उपकरण (पि २८६) । ४ बदला  
करना (पिड ३२५) ।

परिअट्टव वि [पर्यटक] परिअमण करने-  
वाला; 'मिहगिरिसयवपरियट्टव' (कण ३६) ।

परिअट्टिअ वि [दे] परिच्छिन्न (दे ६,  
३६) ।

परिअट्टिविअ वि [दे] परिच्छिन्न (पड्) ।

परिअट्टिवि वि [परिवर्तित] बदलाया हुआ  
(ठा ३, ४; पिड ३२३; पंचा १३, १२) ।  
देखो परिअत्तिअ ।

परिअड सक [परि + अट्] परिअमण  
करना । परिअडंति (आवक १३३) । वक.  
परियडंत (सुर २, २) ।

परिअडण न [पर्यटन] परिअमण (स  
११४) ।

परिअडि छी [दे] १ वृत्ति, वाड़ । २ वि,  
मूल, वेवकूप (दे ६, ७३) ।

परिअडिअ वि [पर्यटित] परिअन्त, भटका  
हुआ (सिन्हा १७) ।

परिअडिअ वि [दे] प्रकृति, व्यक्त किया  
हुआ (पड्) ।

परिअड्ड अक [परि + वृत्] बड़ना,  
'परिअड्ड लायण' (हे ८, २२०) ।

परिअड्ड सक [परि + वर्धय्] बड़ाना  
(हे ४; २२०) ।

परिअड्डि छी [परिवृद्धि] विशेष वृद्धि  
(प्राक २१) ।

परिअड्डिअ वि [परिवर्धिन, °क] बड़ाने-  
वाला, 'समणणणवत्परियट्टिअ' (श्रौप) ।

परिअड्डिअ वि [पर्याह्यक] परियूण  
(श्रौप) ।

परिअड्डिअ वि [परिकर्षिन, °क] खींचने-  
वाला, आकर्षक (श्रौप) ।

परिअड्डिअ वि [परिकृष्ट] सौंचा हुआ,  
आकृष्ट; 'जस्स समरेनु रेहइ ह्यगयममनितिय-  
परिमलुग्गात्ता । दडपरियट्टियजयमनिरिकेत्त-  
कलावी व्व खग्गलया' (सुपा ३१) ।

परिअण पुं [परिजन] १ परिवार, कुटुम्ब,  
पुत्र-कलत्र आदि पालनीय वर्ग । २ अनुचर,  
अनुगामी (गा २८३; गडड; पि ३५०) ।

परिअत्त देखो परिअंत = स्लिप् । परिअत्तइ  
(हे ४, १६० टी) ।

परिअत्त देखो परिअट्ट = परि + वृत् । परि-  
यत्तइ (भवि); 'नटुव्व परियत्तए जीवो'  
(वै ६०), परियत्तए (उवा) । वक. परिय-  
त्तमाण (महा) ।

परिअत्त देखो परिअट्ट = परि + वर्तय् । संक.  
परियत्तेउ (वेडु ३८) ।

परिअत्त देखो परिअट्ट = परिवर्त (श्रौप) ।

परिअत्त वि [दे] प्रकृत, कैला हुआ; 'सन्धा-  
त्तएरिउसंभवहो करपरिअत्ता ताव' (हे ४,  
३६५) ।

परिअत्त वि [परिवृत्त] पलटा हुआ (भवि) ।

परिअत्तण देखो परिअट्टण (गडड),  
'चाइयणकरपरपरियत्तएवेयवसपरिस्संता ।  
अत्था किविणएत्तया सुत्थावत्था सुयंति व्व'  
(सुपा ६३३) ।

परिअत्तणा देखो परिअट्टणा (राज) ।

परिअत्तमाण देखो परिअत्त ।

परिअत्तमाणी छी [परिवर्तमाना] कर्म-  
प्रकृति-विशेष, वह कर्म-प्रकृति जो अन्य प्रकृति

के वन्ध या उदय को रोक कर स्वयं वन्ध या उदय को प्राप्त होती है (पंच ३, १४; ३, ४३; कम्म.५, १ टी)।

परिअत्ता लो [परिवर्ता] ऊपर देखो (कम्म ५, १)।

परिअत्तिअ वि [परिवर्तित] १ मोड़ा हुआ; 'चात्तिअयं परिअत्तिअ' (पात्रे)। २ देखो परिअट्टिय (भवि)।

परिअर सक [परि + चर] सेवा करना। वक्क. परिअरंत (नाट—शकु १५८)।

परिअर वि [दे] लीन, निमग्न (दे ६, २४)।

परिअर पुं [परिकर] १ कटि-कन्धतः 'सन्नद्ध-वद्धपरियरभवेहि' (भवि)। २ परिवार; 'किरण-किलामियपरियरभुयंगवित्तजलणयुमतिमिरेहि' (गउड; चेइय ६४)।

परिअर पुं [परिचर] सेवक, भूयः 'अणु-णिएजंतं रक्खापरिअरधुअयवलचामरणिहेए' (गउड)।

परिअरण न [परिचरण] सेवा (संबोध ३६)।

परिअरणा लो [परिचरणा] सेवा (सम्मत्त २१५)।

परिअरिय वि [परिकरित, परिवृत] १ परिवार-युक्त; 'हयगयरहजोहसुहडपरियरिओ' (महा; भवि; सण)। २ परिवेष्टित; 'तथो तं समायणिएऊए सुइसुहं ताए-गेयं-समंतओ परिअरिया सन्नलोएणं' (महा; चिरि १२८२)।

परिअल सक [गम्] जाना, गमन करना। पच्छिलइ (हे.४, १६२)।

परिअल } पुंलो [दे] याल, धनिया, भोजन-  
परिअलि } पात्र (भवि; दे ६, १२)।

परिअलिअ वि [गत] गया हुआ (कुमा)।

परिअल्ल देखो परिअल। परिअल्लइ (हे.४, १६२)। संक. परिअल्लिऊण (कुमा)।

परिआरअ वि [परिचारक] सेवक, भूय (चार ५३)। लो. रिआ (अभि १६६)।

परिआल सक [वेष्टय] वेष्टन करना, लपेटना। परिआलेइ (हे.४, ५१)।

परिआल वि [दे] परिवृत, परिवेष्टित; 'सो जयइ जामइल्लायमाण-

मुहलालिबलयपरिआलं ।

लच्छिनिवेसंतेउरवई व

जो बहइ बणमाल' (गउड)।

परिआल्ल देखो परिवार (णामा १; न; ठा ४, २; औप)।

परिआलिअ वि [वेष्टित] लपेटा हुआ, वेढा हुआ (कुमा; पात्रे)।

परिआव देखो परिताव (दस ६, २, १४)।

परिआविअ सक [पर्या + पा] पीना। परिआविएजा (सूत्र २, १, ४६)।

परिआसमंत (अप) अ [पर्यासमन्तात्] चारों ओर से (भवि)।

परिइ सक [परि + इ] पर्यटन करना। परि-यति (उत्त २७, १३)।

परिइण वि [परिकीर्ण] व्याप्त (सम्मत्त १५६)।

परिइद (शौ) वि [परिचित] परिचय-विशिष्ट, ज्ञात, पहचाना हुआ (अभि २४५)।

परिउं व सक [परि + चुम्ब] चुम्बन करना। परिउं वइ (भवि)।

परिउं वण न [परिचुम्बन] सर्वतः चुम्बन (गा २२; हास्य १३४)।

परिउं वणा लो [परिचुम्बना] ऊपर देखो; 'गंडपरिउं वणापुलइअंग ए पुणो चिराइस्सं' (गा २०)।

परिउडिक्कय वि [पर्युडिक्कत] सर्वथा व्यक्त (सण)।

परिउट्ट वि [परितुष्ट] विशेष तुष्ट (स.७३४)।

परिउत्थ वि [दे] प्रोषित, प्रवास में गया हुआ (दे ६, १३)।

परिउत्तिअ वि [पर्युषित] वासी, ठरहा, भाफ निकला हुआ (भोजन) (दे १, ३७)।

परिउठ वि [दे. परिगूढ] क्षाम, कृश, पतला; 'उप्फुल्लिआइ वेत्तउ मा

एणं वारेहि होउ परिउठ्ठा।

मा जहएणभारगहई पुरिसाअंती

किलिम्मिहिइ' (गा १६६)।

परिऊरण न [परिपूरण] परिपूर्ति (नाट—शकु न)।

परिएस देखो परिवेस = परि + विप्। कवक. परिएसिज्जमाण (आचा २, १, २, १)।

परिएस देखो परिवेस = परिवेश (स ३१२)। परिओस सक [परि + तोपय] संतुष्ट करना, खुशी करना। परिओसइ (भवि; सण)।

परिओस पुं [परितोष] ध्यानन्द, संतोष, खुशी (से ११, ३; गा ६८; २०६; स ६; सुपा ३७०)।

परिओस पुं [दे. परिटोष] विशेष द्वेष (भवि)।

परिओसिय वि [परितोषित] संतुष्ट किया हुआ (से १३, २५; भवि)।

परित देखो परी = परि + इ।

परिकंख सक [परि + काड्क्ष] १ विशेष अभिलाषा करना। २ प्रलोढा करना। परिकंखए (उत्त ७, २)।

परिकंइ पुं [परिक्रन्द] आक्रन्द, विल्लाहट (हम्मोर ३०)।

परिकंपि वि [परिकम्पिन्] अतिशय कंपानेवाला (गउड)।

परिकंपिर वि [परिकम्पित] विशेष कंपानेवाला (सण)।

परिकच्छिय वि [परिकक्षित] परिगृहीत (राय)।

परिकट्टलिअ वि [दे] एकत्र पिएडीकृत (पिड २३६)।

परिकइह सक [परि + कृप्] १ पार्श्व भाग में खींचना। २ प्रारम्भ करना। वक्क. परिकइहेमाण (राज)। संक. परिकइडिऊण (पंचव २)।

परिकडिण वि [परिकठिन] अत्यन्त कठिन (गउड)।

परिकप्प सक [परि + कल्पय] १ निष्पादन करना। २ कल्पना करना। परिकप्पयति (सूत्र १, ७, १३)। संक. परिकप्पऊण (चेइय १४)।

परिकप्पिय वि [परिकल्पित] छिन्न, काटा हुआ (पएह १, ३)। देखो परिगप्पिय।

परिकवुर वि [परिकवुर] विशेष कवरा—चित्तकवरा (गउड)।

परिकम्म } न [परिकर्मन्] १ गुण-विशेष  
परिकम्मण } का आधान; संस्कार-करण;  
'परिकम्मं किरियाए ववुएणं गुणवित्तेस-

परिक्रमणो' (विसे ६२३; सुर १३, १२४),  
 तिवि पयट्टा काजं सरोरपरिक्रमणं एवं  
 (कुप २७१; कप्प; उव) । २ संस्कार का  
 कारण-भूत शास्त्र (एदि) । ३ गणित-  
 विशेष । ४ संव्यान-विशेष, एक तरह की  
 गणना (ठा १०—पत्र ४६६) । ५ निष्पादन  
 (पत्र १३३) ।

परिक्रमणा स्त्री. ऊपर देखो; 'खेतमख्वं  
 तिच्चं न तस्स परिक्रमणा नय विणासो'  
 (विसे ६२४; सम्म ५४; संबोध ५३;  
 उपपं ३४) ।

परिक्रमिय वि [परिकर्मित] परिकर्म-  
 विशिष्ट, संस्कारित (कप्प) ।

परिकर देखो परिअर = परिकर (पिण) ।

परिकलण न [परिकलन] उपभोग; 'भमर-  
 परिकलणवमकमलभूसियत्तरो' (सुपा ३) ।

परिकलित्त वि [परिकलित] १ युक्त, सहित  
 (तिरि ३८१) । २ व्याप्त (सम्मत्त २१५) ।  
 ३ प्राप्त; 'अंजलिपरिकलियजलं व गलइ इह  
 जोय' (धर्मवि २५) ।

परिकवलणा स्त्री [परिकवलना] भक्षण;  
 'हरियपरिकवलणापुट्टुगोचकुला' (सुपा ३) ।

परिकविल वि [परिकविल] सर्वतोभाव से  
 कपिल बरणावाला (गउड) ।

परिकविस वि [परिकविश] अतिशय कपिश  
 रंगवाला (गउड) ।

परिकसण न [परिकण] खोनात्र (गउड) ।

परिकह सक [परि + कथय्] प्रख्या  
 करना, कहना । परिकहेइ (उवा), परिकहेत्तु  
 (कम्म ६, ७५) । कर्म. परिकहिज्जइ (पि  
 ५४३) । हेक्क. परिकहेउं (औप) ।

परिकहण न [परिकथन] आख्या, प्रख्या  
 (सुपा २) ।

परिकहणा स्त्री [परिकथना] ऊपर देखो  
 (आवम) ।

परिकहा स्त्री [परिकथा] १ वातचीत । २  
 वार्तन (पिड १२६) ।

परिकहिय वि [परिकथित] प्रख्यापित,  
 आख्यात (महा) ।

परिकिण्ण देखो परिकिन्न; 'चिडियाचक्कवाल-  
 परिकिण्णा' (उवा) ।

परिकित्तित्त वि [परिकीर्त्तित] व्याख्यात,  
 श्लाघित (श्रु ११०) ।

परिकिन्न वि [परिकीर्ण] १ परिकृत, वेष्टित,  
 'नियपरियणपरिकिन्नो' (धर्मवि ५४) । २  
 व्याप्त (सुर १, ५६) ।

परिकिलंत वि [परिक्रान्त] विशेष खिन्न  
 (उप २६४ ठो) ।

परिकिलेस सक [परि + क्लेशय्] दुःखी  
 करना, हैरान करना । परिकिलेसंति (भग) ।  
 संक. परिकिलेसित्ता (भग) ।

परिकिलेस पुं [परिक्लेश] दुःख, याचा,  
 हैरानी (सुत्र २, २, ५५; औप; स ६७५;  
 धर्मसं १००४) ।

परिकीलित्त वि [परिकीर्त्तित्] अतिशय क्रोडा  
 करनेवाला (सण) ।

परिकुण्ठिय वि [परिकुण्ठित] जड़ीभूत  
 (विसे १८३) ।

परिकुण्ठिल वि [परिकुण्ठिल] विशेष वक्र  
 (सुर १, १) ।

परिकुद्ध वि [परिकुद्ध] अत्यन्त कुपित  
 (धर्मवि १२४) ।

परिकुविय वि [परिकुपित] अतिशय क्रुद्ध  
 (राया १, ८; उव; सण) ।

परिकोमल वि [परिकोमल] सर्वथा कोमल  
 (गउड) ।

परिक्रंत वि [परिक्रान्त] पराक्रम-युक्त (सुत्र  
 १, ३, ४, १५) ।

परिक्रम सक [परि + क्रम्] १ पांव से  
 चलना । २ समीप में जाना । ३ पराम्भ  
 करना । ४ अक. पराक्रम करना । परिक्रमदि  
 (वकिम ४६) । परिक्रमसि (वकिम ५५) ।  
 परिक्रमेव (शौ) (पि ४८१) । वक्क. परिक्रमंत  
 (नाट) । क. परिक्रमियत्त (राया १,  
 ५—पत्र १०३) । संक. परिक्रमम् (सुत्र १,  
 ४, १, २) ।

परिक्रम देखो परिक्रम = पराक्रम (राया १,  
 १; सण; उत. १८, २४) ।

परिक्रहिय देखो परिकहिय (सुपा २०८) ।

परिक्राम देखो परिक्रम = परि + क्रम् ।  
 परिक्रामदि (पि ४८१; वि ८७) ।

परिक्रख सक [परि + ईक्ष्] परखना,  
 परीक्षा करना । परिक्रखइ, परिक्रखए, परिक्रखंति,

परिक्रख (भवि; महा; यज्जा १५८; स  
 ४५७) । वक्क. परिक्रखंत; परिक्रखमाण  
 (औप ८० भा; था १४) । संक. परिक्रखिय  
 (उव) । क. परिक्रखियत्त (काल) ।

परिक्रखअ वि [परिक्रख] परीक्षा करनेवाला  
 (सुपा ४२७; था १४) ।

परिक्रखअ वि [परिक्रख] आहत, जिसको  
 घाव हुआ हो वह (से ८, ७३) ।

परिक्रखअ पुं [परिक्रख] १ क्रमशः हानि;  
 'वहुलपयखचंदस्स जोएहापरिक्रखओ विअ'  
 (चार ८) । २ क्षय, नाश (गउड) ।

परिक्रखण न [परिक्रखण] परीक्षा (स ४६६;  
 कप्प; सुपा ४४६; राया १, ७ भवि) ।

परिक्रखणा स्त्री [परिक्रखणा] परीक्षा (पउम  
 ६१, ३३) ।

परिक्रखमाण देखो परिक्रख ।

परिक्रखल अक [परि + खल] स्वलित  
 होना । वक्क. परिक्रखलंत (से ४, १७) ।

परिक्रखलित्त वि [परिक्रखलित] स्वलना-  
 प्राप्त (पि ३०६) ।

परिक्रखा स्त्री [परिक्रखा] परख, जाच (नाट—  
 मालवि २२) ।

परिक्रखाइअ वि [दि] परिक्रख (पड) ।

परिक्रखाम वि [परिक्रखाम] अतिशय कृश  
 (उत्तर ७२; नाट—रत्ना ३) ।

परिक्रखि वि [परिक्रखि] परखनेवाला,  
 परीक्षक (था १४) ।

परिक्रखित्त वि [परिक्रखित्त] १ वेष्टित, घेरा  
 हुआ (औप; पाश; से १, ५२; वसु) । २ सर्वथा  
 क्षिप्त (आवम) । ३ चारों ओर से व्याप्त  
 (राय) ।

परिक्रखिय वि [परिक्रखित] जिसकी परीक्षा  
 की गई हो वह (प्रासु १५) ।

परिक्रखिय सक [परि + क्षिप्] १ वेष्टन  
 करना । २ तिरस्कार करना । ३ व्याप्त  
 करना । ४ फेंकना; 'एयं तु जरामरणं  
 परिक्रखियइ वग्गुरा व मयजूहं' (तंडु ३३;  
 जीवस १८६) । कर्म. परिक्रखिओआमो (पि  
 ३१६) ।

परिक्रखियिय वि [परिक्रखित] फेंका हुआ  
 (हम्मोर ३२) ।

परिक्रखेव वि [परिक्रखेव] घेरा, परिवि (भग;  
 सम ५६; कस; औप) ।

परिक्खेवि वि [परिक्षेपिन्] तिरस्कार करनेवाला (उत्त ११, ८)।

परिखं व पुं [दि] काहार, कहार, जलादि-बाहक, नोकर (दे २, २७)।

परिखज्ज सक [परि + खज्ज] खुजाना, खुजलाना। कवक. 'परिखज्जमाणमत्ययदेतो' (उप ६८६ टि)।

परिखण न [परीक्षण] परीक्षा-करण; परीक्षा लेने, परखने या जाँच करने का काम (पव ३८)।

परिखविय वि [परिक्षिपित] परिक्षीण; 'गुरुब्रह्मणपरिखवियसरोरो' (महा)।

परिखाम वि [परिक्षाम] अति दुर्बल, विशेष कृश (गा १६६)।

परिखित्त देखो परिक्खित्त (सण)।

परिखिव देखो परिक्खिव। परिखिवइ (भवि); 'राया तं परिखिवइ दोहग्गवइण मज्जम्मि' (सम्मत्त २१७; वेइय ६५५)।

परिखिविय देखो परिक्खित्त (सण)।

परिखुहिय वि [परिखुध] अतिशय लोभ को प्राप्त (भवि)।

परिखेइय वि [परिखेदित्त] विशेष खिन्न किया हुआ (सण)।

परिखेइ पुं [परिखेइ] विशेष वेद (स्वप्न १०, ८०)।

परिखेय सक [परि + खेइय] अतिशय खिन्न करना। परिखेइइ (सण)। संक. परिखेइयि (अप) (सण)।

परिखेविय (अप) देखो परिक्खिविय (सण)।

परिगंतु देखो परिगम।

परिगण सक [परि + गणय] १ गणना करना। २ चिन्तन करना, विचार करना। वक. 'एस यक्का मम गमणस्स त्ति परिगणतेण विण्णविओ राया' (महा)।

परिगप्पण न [परिकल्पन] कल्पना (धर्मसं ६८१)।

परिगप्पणा लो [परिकल्पना] जरूर देखो (धर्मसं ३०५)।

परिगप्पिय वि [परिकल्पित] जिसकी कल्पना की गई हो वह (स ११३; धर्मसं ६६६)। देखो परिकल्पिय।

परिगम सक [परि + गम्] १ जाना,

गमन करना। २ चारों ओर से वेष्टन करना। ३ व्याप्त करना। संक. परिगंतु (सण)।

परिगमण न [परिगमन] १ गुण, पर्वय; 'परिगमणं पज्जाओ ओणेरणं गुणोत्ति एत्वा' (सम्म १०६)। २ समन्ताद् गमन (निबू ३)।

परिगमिर वि [परिगन्तु] जानेवाला (सण)।

परिगय वि [परिगत] १ परिवेष्टित; 'मणु-स्सवग्गुरापरिगए' (उवा: गा ६६), 'बहुपरियणपरिगया' (सम्मत्त २१७)। २ व्याप्त; 'विसपरिगयाहि दाढाहि' (उवा)।

परिगर पुं [परिकर] परिवार; 'सैसाण तु हरियव्वं परिगरविहवकालमादीणि णाउं' (धर्मसं ६२६)।

परिगरिय वि [परिकरित] देखो परिअरिय (सुपा १२७)।

परिगल अक [परि + गल] १ गल जाना, क्षीण होना। २ भरना, टपकना। परिगलइ (काल)। वक. परिगलंत (पउम ११२, १५; तंदु ४४)।

परिगलिय वि [परिगलित] गला हुआ, परिक्षीण (कुप्र ७; महा; सुपा ८७; ३६२)।

परिगलिर वि [परिगलित्त] गल जानेवाला, क्षीण होनेवाला (सण)।

परिगह देखो परिगेण्ह। संक. परिगहिअ (मा ४८)।

परिगह देखो परिगह (कुमा)।

परिगहिय देखो परिगहिय (वृह १)।

परिगा सक [परि + गै] गान करना। कवक. परिगिजमाण (खाया १, १)।

परिगालण न [परिगालन] गालन, छानन (पएह १, १)।

परिगिजमाण देखो परिगा।

परिगिज्ज } देखो परिगेण्ह।  
परिगिज्जिअ }

परिगिण्ह देखो परिगेण्ह। परिगिण्हइ (आचू १)। वक. परिगिण्हंत, परिगिण्हमाण (सुप्र २, १, ४४; ठा ७—पत्र ३८३)।

परिगिला अक [परि + रलै] ग्लान होना। वक. परिगिलायमाण (आचा)।

परिगुण सक [परि + गुणय] परिगणन करना, गिनती करना। परिगुणहु. (अप) (पिग)।

परिगुणण न [परिगुणन] स्वाध्याय (श्रोष ६२)।

परिगुव अक [परि + गुप्] १ व्याकुल होना। २ सक. सतत भ्रमण करना। वक. परिगुवंत (राज)।

परिगुव सक [परि + गु] शब्द करना। वक. परिगुवंत (राज)।

परिगुव्व अक [परि + गुप्] १ व्याकुल होना। २ सक. सतत भ्रमण करना। वक. परिगुवंत (ठा १०—पत्र ५००)।

परिगू सक [परि + गू] शब्द करना। कवक. परिगुवंत (ठा १०—पत्र ५००)।

परिगेण्ह } सक [परि + ग्रह्] ग्रहण  
परिगह } करना, स्वीकार करना (प्राप्ता)।

वक. परिगहमाण (आचा १, ८, ३, १)। संक. परिगिज्जिअ, परिघेत्तूण (राज; पि ५८६)। हेक. परिघेत्तुं (पि ५७६)। क. परिगिज्ज, परिघेतव्व, परिघेत्तव्व (उत्त १, ४३; सुपा ३३; सुप्र २, १, ४८, पि ५७०)।

परिगय देखो परिगय (दस ६, २, ८)।

परिगह पुं [परिग्रह] १ ग्रहण, स्वीकार। २ धन आदि का संग्रह (पएह १, ५; औप)।

३ ममत्व, मूर्च्छा (ठा १)। ४ ममत्व-पूर्वक जिसका संग्रह किया जाय वह (आचा, ठा ३, १; धर्म २)। 'वेरमण न [विरमण] परिग्रह से निवृत्ति (ठा १, पएह २, ५)। 'वंत वि [वन्] परिग्रह-युक्त (आचा; पि ३६६)।

परिगहि वि [परिग्रहिन्] परिग्रह-युक्त (सुप्र १, ६)।

परिगहिय वि [परिग्रहीत] स्वीकृत (उवा; औप)।

परिगहिया लो [परिग्रहिनी] परिग्रह-सम्बन्धी क्रिया (ठा २, १; नव १७)।

परिघघर वि [परिघघर] वैठी हुई (आवाज); 'हरियो जयइ चिरं निहयसइपरिघघरा वाणी' (गउड)।

परिघट्ट सक [परि + घट्ट] आघात करना ।  
 कवक. परिघट्टिजंत (महा) ।  
 परिघट्टण न [परिघट्टन] आघात (वज्रा ३८) ।  
 परिघट्टण न [परिघट्टन] निर्माण, रचना (निचू १) ।  
 परिघट्टिय वि [परिघट्टित] आहत, ताडित (जीव ३) ।  
 परिघट्ट वि [परिघट्ट] १ जिसका घर्षण किया गया हो वह, घिसा हुआ; 'मंदरपडपरिघट्ट' (हे २, १७४) ।  
 परिघाय देखो परीघाय (राज) ।  
 परिवास सक [परि + वासय्] निमाना, भोजन कराना । हेक. परिवासेडं (आचा) ।  
 परिवासिय वि [परिवापित] परिषप-युक्त, 'रयसा वा परिवाप्तियुव्वे भवति' (आचा २, १, ३, ५) ।  
 परिचुम्भिर वि [परिचूर्णित] शनैः शनैः कांपता हिलता, डोलता (पउम ८, २८३; गा १४८) ।  
 परिचेतव्व  
 परिचेत्तव्व  
 परिचेत्तुं  
 परिचेत्तुण  
 देखो परिगेण्ह ।  
 परिघोल सक [परि + घूर्ण] १ डोलना ।  
 २ परिभ्रमण करना । वक. परिघोलंत, परिघोलेमाण (से १, ३३; औप. एाया १, ४—पत्र ६७) ।  
 परिघोलण न [दे. परिघोलन] विचार (ठा ४, ४—पत्र २८३) ।  
 परिघोलिर वि [परिचूर्णित] डोलनेवाला (गड्ड) ।  
 परिचअ देखो परियय = परिचय (नाट—शकु ७७) ।  
 परिचअ देखो परिचअ । संक. परिचइऊण, परिचइय (महा) ।  
 परिचंचल वि [परिचंचल] अतिशय चपल (वे १४) ।  
 परिचन्त देखो परिचन्त (महा; औप) ।  
 परिचरणा वी [परिचरणा] सेवा, भक्ति (सुपा १५६) ।

परिचल सक [परि + चल] विशेष चलना ।  
 परिचलइ (पिग) ।  
 परिचलित वि [परिचलित] विशेष चला हुआ (दे ५, ६) ।  
 परिचारअ वि [परिचारक] सेवा करनेवाला, सेवक (नाट—मालवि ६) । वी. 'रिआ (नाट) ।  
 परिचारणा वी [परिचारणा] मैयुत-प्रवृत्ति (ठा ५, १) ।  
 परिचित सक [परि + चिन्तय्] चिन्तन करना, विचार करना । परिचितइ, परिचितेइ (सण; उव) । कर्म. परिचितियइ (अप) (सण) ।  
 वक. परिचितंत, परिचितयंत (सण; पउम ६६, ४) ।  
 परिचितिय वि [परिचिन्तित] जिसका चिन्तन किया गया हो वह (सण) ।  
 परिचितिर वि [परिचिन्तयित्] चिन्तन करनेवाला (सण) ।  
 परिचिट्ट अक [परि + स्था] रहना, स्थिति करना । परिचिट्टइ (सण) ।  
 परिचिय वि [परिचित] ज्ञात, जाना हुआ, विहा हुआ, पहिचाना हुआ (औप) ।  
 परिचुंव देखो परिउंव । परिचुंविज्जमाण (औप) । संक. परिचुंविअ (अभि १५०) ।  
 परिचुंवण देखो परिउंवण (पठम १६, ७६) ।  
 परिचुंविअ वि [परिचुम्भित] जिसका चुम्बन किया गया हो वह; 'परिचुंविअनहंग' (उप ५६७ टी) ।  
 परिचअ सक [परि + त्यज्] परित्याग करना, छोड़ देना । परिचयइ, परिचग्रह (महा; अभि १७७) । वक. परिचअंत (अभि १३७) । संक. परिचइअ, परिचज्ज, परिचइऊण (पि ५६०; उत ३५, २; राज) । हेक. परिचइत्तए, परिचत्तुं (ज्वा; नाट) ।  
 परिचन्त वि [परित्यक्त] जिसका परित्याग किया गया हो वह (से ८, २०; सुर २; १२०; सुपा ४१८; नाट—शकु १३२) ।  
 परिचयण न [परित्यजन] परित्याग (स ३३) ।  
 परिचइइ वि [परित्यागिन] परित्याग करनेवाला (औप; अभि १४०) ।

परिचाम पुं [परित्याग] त्याग, मोचन  
 परिचाम्य (पंचा ११, १४; उव ७६२; औप. भग) ।  
 परिचाम्य वि [परित्याग्य] त्याग करने लायक, 'अणणेवि अनुदुजोगा सोहिपमाणे परिचाम्य' (संबोप ५४) ।  
 परिचिअ वि [दे.] उक्तिम, ऊपर फेंका हुआ (पड) ।  
 परिचिअ देतां परिचिय (उव १४२ टी) ।  
 परिच्छ देशो परिच्छय. 'मणयणकावगुत्तो सउजो मरणं परिच्छिउज्जा' (पत्र ६८; पिउ ३०), परिच्छति (पिउ ३१) ।  
 परिच्छग वि [परीक्षक] परीक्षा-कर्ता (पमंसं ५१६) ।  
 परिच्छणण वि [परिच्छन्न] १ आच्छादित, परिच्छन्न २ डका हुआ (महा) । २ परिच्छद-युक्त, परिवार-रहित (वव ४) ।  
 परिच्छय वि [परीक्षक] परीक्षा करनेवाला (सम्म १५६) ।  
 परिच्छा वी [परीक्षा] परत, जांच, आज्ञादाय (श्रोव ३१ भा; विसे ८४८; उव पृ १०८) ।  
 परिच्छअ देखो परिक्खिय (या १६) ।  
 परिच्छइ सक [परि + छिइ] ? निश्चय करना, निर्णय करना । २ काटना, काट डालना । परिच्छइइ (धमंसं ३७१) । संक. 'परिच्छिदिय वाहिरंगं च सायं निक्खमंसो इह मच्चिहि' (आचा—टि; पि ५०६; ५६१) ।  
 परिच्छणण वि [परिच्छन्न] १ काटा हुआ, 'नय सुहतएहा परिच्छणणा' (पत्र ६५) । २ निर्णीत, निश्चित (आव ४) ।  
 परिच्छत्ति वी [परिच्छत्ति] १ परिच्छद, निर्णय । २ परीक्षा, जांच (उप ८६५) ।  
 परिच्छन्न देखो परिच्छणण (स ५६६; सम्मत १४२) ।  
 परिच्छइ वि [दे. परिक्षिप्त] १ उक्तिम; फेंका हुआ (दे ६, २५; नमि ६) । २ परित्यक्त (से १३, १७) ।  
 परिच्छेअ पुं [परिच्छेद] निर्णय, निश्चय (विसे २२४४, स ६६७) ।  
 परिच्छेअ वि [दे. परिच्छेक] लघु, छोटा (औप) ।

परिच्छेदअग वि [परिच्छेदक] निश्चय करने-  
वाला (उप ८५३ टी) ।  
परिच्छेदज वि [परिच्छेद्य] वह वस्तु जिसका  
क्रम-विक्रम परिच्छेद पर निर्भर रहता है—  
रत्न, वस्त्र आदि द्रव्य (आ १८) ।  
परिच्छेद देखो परिच्छेद = परिच्छेद (धर्मसं  
१२३१) ।  
परिच्छेदग देखो परिच्छेदअग (धर्मसं ५०) ।  
परिच्छेद्य वि [परिस्तोक] थोड़ा, अल्प  
(श्रौप) ।  
परिच्छेज देखो परिच्छेज (आ १८) ।  
परिजपिय वि [परिजल्पित] उक्त, कथित  
(सुपा ३६४) ।  
परिजजर वि [परिजर्जर] अतिजीर्ण (उप  
२६४ टी; ६८६ टी) ।  
परिजडिल वि [परिजटिल] अतिशय जटिल  
(गच्छ) ।  
परिजण देखो परिअण (उवा) ।  
परिजय सक [परि + विच्] धृक् करना,  
अलग करना । संक. परिजविय (सूत्र २,  
२, ४०) ।  
परिजय सक [परि + जप्] १ जाप करना ।  
२ बहुत बोलना, बकवाद करना । संक. 'स  
भिक्षु वा भिक्षुणी वा गामाणुगामं दूइज-  
माणे णो पोहिं सद्धि परिजविया २ गामा-  
णुगामं दूइज्जेजा' (आचा २, ३, २, ८) ।  
परिजवण न [परिजपन] जाप, जपन, मन्त्र  
आदिका पुनः पुनः उच्चारण (विसे ११४०;  
सुर १२, २०१) ।  
परिजाइय वि [परियाचित] माँगा हुआ  
(धर्मसं १०४५) ।  
परिजाण सक [परि + ज्ञा] अच्छी तरह  
जानना । परिजाणइ (उवा) । वक. परिजा-  
णमाण (कुमा) । कवक. परिजाणिजमाण  
(एया १, १; कुमा) । संक. परिजाणिया  
(सूत्र १, १, १, १; १, ६, ६; १, ६,  
१०) । क. परिजाणियच्च (आचा; पि  
५७०) ।  
परिजिअ वि [परिजित] सर्वथा जीत, जिस-  
पर पूरा काजू किया गया हो वह (विसे  
८५१) ।

परिजुण वि [परिजीर्ण] १ फटा-टूटा,  
अत्यन्त जीर्ण (आचा) । २ दुर्बल (उत्त २,  
१२) । ३ दरिद्र, निर्धन; 'परिजुणो उ  
दरिद्रो' (वव ४) ।  
परिजुणा देखो परिजुना (ठा १०—पत्र  
४७४ टी) ।  
परिजुत्त वि [परियुक्त] सहित (संबोध १) ।  
परिजुन्न देखो परिजुण (उप २६४ टी) ।  
परिजुन्ना स्त्री [परिजीर्णा, परिधूना] प्रव्रज्या,  
विशेष, दरिद्रता के कारण ली हुई दीक्षा  
(ठा १०—पत्र ४७३) ।  
परिजुसिय देखो परिजुसिय (ठा ४, १—  
पत्र १८७; श्रौप) ।  
परिजुसिय न [पर्युषित] रात्रि-परिवसन,  
रात का वासी रहना, वासी (ठा ४, २—पत्र  
२१६) । देखो परिउसिय ।  
परिजूर अक [परि + जू] सर्वथा जीर्ण होना;  
'परिजूरइ ते सरोरय' (उत्त १०, २६) ।  
परिजूरिय वि [परिजीर्ण] अतिजीर्ण (अणु) ।  
परिज्जय पुं [दे] कृष्ण पुद्गल-विशेष (सुज्ज  
२०) ।  
परिज्जुन्न देखो परिजूरिय (वस ६, २, ८) ।  
परिज्जामिय वि [परिध्यामित] श्याम  
(काला) किया हुआ (निद्र १) ।  
परिज्जुसिय वि [परिजुष्ट] १ सेवित ।  
परिज्जुसिय } २ प्रीत; 'परिज्जुसियकाममो-  
परिज्जुसिय } गसंपओगसंपउत्ते' (भग २५,  
७—पत्र ६२३; ६२५ टी) । ३ परीक्षण,  
ठा ४, १—पत्र १८८ टी; पि २०६) ।  
परिट्ठव सक [परि + स्थापय] १ परि-  
त्याग करना । २ संस्थापन करना । परिट्ठवेइ;  
परिट्ठवेज्जा (आचा २, १, ६, ५; उवा) ।  
संक. परिट्ठवेऊण, परिट्ठवेत्ता (वह ४;  
कस) । हेक. परिट्ठवेत्तए (कस) । वक.  
परिट्ठवंत (निद्र २) । क. परिट्ठप्प,  
परिट्ठवेयच्च (उत्त १४, ६; कस) ।  
परिट्ठवण न [प्रतिष्ठापन] प्रतिष्ठा कराना  
(वेइय ७७६) ।  
परिट्ठवण न [परिष्ठापन] परित्याग (उव;  
पव १५२) ।  
परिट्ठवणा स्त्री [परिष्ठापना] ऊपर देखो,  
'अविहिपरिट्ठवणाए काउत्सगो य गुरुसमी-  
वम्मि' (वह ४) ।

परिट्ठवणा स्त्री [प्रतिष्ठापना] प्रतिष्ठा कराना,  
'वेयावच्चं जिणगिहरक्खणपरिट्ठवणाइजिण-  
किच्चं' (वेइय ७७६) ।  
परिट्ठविय स्त्री [प्रतिष्ठापित] संस्थापित  
(भवि) ।  
परिट्ठा देखो पइट्ठा (हे १, ३८) ।  
परिट्ठाइ वि [परिष्ठापिन्] परित्यागी (नाट—  
साहि १६२) ।  
परिट्ठाण न [परिस्थान] परित्याग (नाट) ।  
परिट्ठाव देखो परिट्ठव हेक. परिट्ठावित्तए  
(कप्प; पि ५७८) ।  
परिट्ठावअ वि [परिस्थापक] परित्याग  
करनेवाला (नाट) ।  
परिट्ठिअ वि [परिस्थित] संपूर्ण रूप से  
स्थित (पव ६६) ।  
परिट्ठिअ देखो पइट्ठिय (हे १, ३८; २,  
२११; पइ; महा; सुर ३, १३) ।  
परिठव देखो परिट्ठव । परिठवहु (अप  
(पिण) ।  
परिठवण देखो परिट्ठवण = परिष्ठापन (पव—  
गाथा २४) ।  
परिण देखो परिणी, 'परिणइ बहुयाउ खयर-  
कन्नाओ' (धर्मवि ८२) । वक. परिणंत  
(भवि) । संक. परिणिऊण (महा; कुप्र ७६;  
१२७) ।  
परिणइ स्त्री [परिणति] परिणाम; (गा ५६८;  
धर्मसं ६२३) ।  
परिणंत देखो परिण ।  
परिणंतु वि [परिणन्तु] परिणाम को प्राप्त  
होनेवाला, परिणत होनेवाला (विसे ३५३४) ।  
परिणंद सक [परि + नन्द] वर्णन करना,  
श्लाघा करना; 'ताणं परिणंदंता (? ति)  
(तंदु ४०) ।  
परिणद्ध वि [परिणद्ध] १ परिगत, वेष्टित;  
'उंदुरमालापरिणद्धसुक्याचिधे' (उवा, एया  
१, ८—पत्र १३३) । २ न. वेष्टन (एया  
१, ८) ।  
परिणम सक [परि + णम्] १ प्राप्त करना ।  
२ अक. ह्पान्तर को प्राप्त होना । ३ पूर्ण  
होना, पूरा होना; 'किणह्लेसं तु परिणमे'  
(उत्त ३४, २२), 'परिणमइ अण्यमाओ'  
(स ६८४; भग १२, ५) । वक. परिणमंत,

परिणममाण (ठा ७; लाया १, १—पत्र ३१) ।

परिणमण न [परिणमन] परिणाम (धर्मसं ४७२; उप ८६८) ।

परिणमिअ } वि [परिणत] १ परिपक्व  
परिणय } (पात्र) । २ वृद्धि-प्राप्त; 'तह  
परिणमिओ वम्मो जह तं खोभंति न सुरावि'  
(वर्मवि ८) । ३ अत्रत्यान्तर को प्राप्त (ठा  
२, १—पत्र ५३; पिड २६५) । ४ वय वि  
[वयस्] १ वृद्ध; वृद्धा (लाया १, १—  
पत्र ४८) ।

परिणयण न [परिणयन] विवाह (उप  
१०१४; सुपा २७१) ।

परिणयणा लो. ऊपर देखो (वर्मवि १२६) ।

परिणव देखो परिणम । परिणवइ (आरा  
३१; महा) ।

परिणाइ पुं [परिणाति] परिचय, 'कह तुष्क  
तेण समवं परिणाई तक्खणेण उप्पनो'  
(पठम ५३, २५) ।

परिणाम सक [परि + णमय] परिणत  
करना । परिणामेइ (ठा २, २) । क्वक.  
परिणामिज्जमाण, परिणामेज्जमाण (भग;  
ठा १०) । हेऊ. परिणामित्तए (भग ३,  
४) ।

परिणाम पुं [परिणाम] १ अत्रत्यान्तर-प्राप्ति,  
ह्यान्तरलाभ (धर्मसं ४७२) । २ दीर्घ काल  
के अनुभव से उत्पन्न होनेवाला आत्म-धर्म  
विशेष (ठा ४, ४—पत्र २८३) । ३ स्वभाव,  
धर्म (ठा ६) । ४ अर्थवसाय, मनो-भाव  
(निडू २०) । ५ वि. परिणत करनेवाला;  
'द्विहुता परिणामे' (वव १०; वृह १) ।

परिणामणया } लो [परिणामना] परिण-  
परिणामणा } माना, ह्यान्तरकरण (परण  
३४—पत्र ७७४; वित्ते २२७८) ।

परिणामय वि [परिणामक] परिणत करने-  
वाला (वृह १) ।

परिणामि वि [परिणामिन्] परिणत होने-  
वाला (दे १, १; आचक १८३) । १ कारण  
न [कारण] कार्य-रूप में परिणत होनेवाला  
कारण, उपादान कारण (उवर २७) ।

परिणामिअ वि [परिणामिक] १ परिणाम-  
जन्म, परिणाम से उत्पन्न । २ परिणाम-  
संबन्धी । ३ पुं. परिणाम । ४ भाव-विशेष;

'सव्वदव्वपरिणइह्वो परिणामिओ सव्वो'  
(वित्ते २१७३; ३४६५) ।

परिणामिअ वि [परिणमित] परिणत किया  
हुआ (पिड ६१२; भग) ।

परिणामिआ लो [परिणामिकी] बुद्धि-  
विशेष, दीर्घ काल के अनुभव से उत्पन्न होने-  
वाली बुद्धि (ठा ४, ४) ।

परिणाय वि [परिजात] जाना हुआ, परिचित  
(पठम ११, २७) ।

परिणाव सक [परि + णायय] विवाह  
कराना । परिणावसु (कुप्र ११६) । क.  
परिणावियच्च, परिणावेयच्च (कुप्र ३३०;  
१५४) ।

परिणावण न [परिणायन] विवाह कराना  
(सुपा ३६८) ।

परिणाविअ वि [परिणावित] जिसका विवाह  
कराया गया हो वह (सुपा १६५; धर्मवि  
१३६; कुप्र १४) ।

परिणाह पुं [परिणाह] १ लम्बाई, विस्तार  
(पात्र; से ११, १२) । २ परिचि (स ३१२;  
ठा २, २) ।

परिणिऊण देखो परिण ।

परिणित देखो परिणी = परि + गम् ।

परिणिजंत देखो परिणी = परि + णी ।

परिणिज्जरा लो [परिनिर्जरा] विनाश, क्षय  
(पठम ३१, ६) ।

परिणिज्जिय वि [परिनिर्जित] पराभूत,  
पराजय-प्राप्त (पठम ५२, २१) ।

परिणिट्ठा लो [परिनिट्टा] संपूर्णता, समाप्ति  
(उवर १२५) ।

परिणिट्ठान न [परिनिट्टान] अवसान, अन्त  
(वित्ते ६२६) ।

परिणिट्ठिअ वि [परिनिट्ठित] १ पूर्ण किया  
हुआ; समाप्त किया हुआ (स्यण २५) ।  
२ पार-प्राप्त (लाया १; न; भास ६८;  
पंचा १२, १४) । ३ परिज्ञात (वव १०) ।

परिणिट्ठिया लो [परिनिट्ठिता] १ कृपि-  
विशेष; जिसमें दो या तीन बार तृण-शोधन  
किया गया हो वह कृपि; अर्थात् दो या तीन  
बार की सोहनी (निराई) की हुई खेत । २  
दीक्षा-विशेष, जिसमें बार-बार अतिचारों की  
आलोचना की जाती हो वह दीक्षा (राज) ।

परिणिय वि [परिणीत] जिसका विवाह  
हुआ हो वह (सण; भवि) ।

परिणिव्वय सक [परिनिर् + वापय] ।  
सर्व प्रकार से अतिशय परिणत करना ।  
संऊ. परिणिव्वयविय (कस) ।

परिणिव्वा अक [परिनिर् + वा] १ शान्त  
होना । २ मुक्ति पाना, मोक्ष को प्राप्त  
करना । परिणिव्वायंति (भग) । भूका.  
परिणिव्वाइंसु (पि २१६) । भाव. परि-  
णिव्वाहित (भग) ।

परिणिव्वाण न [परिनिर्वाण] मुक्ति, मोक्ष  
(आचा; कप्प) ।

परिणिव्वुइ लो [परिनिर्वृति] ऊपर देखो  
(राज) ।

परिणिव्वुय देखो परिनिर्व्वुअ (शौप) ।

परिणी सक [परि + णी] १ विवाह करना ।  
२ ले जाना । क्वक. परिणिजंत, परिणीय-  
माण (कुप्र १२७; आचा) ।

परिणी अक [परि + गम्] बाहर निकलना ।  
वक. परिणित (स ६६१) ।

परिणीअ वि [परिणीत] जिसका विवाह  
किया गया हो वह (महा; प्रासु ६३; सण) ।

परिणील वि [परिणील] सन्ध्या हरा रंग  
का (गडड) ।

परिणे देखो परिणी । परिणेइ (महा; पि  
४७४) । हेऊ. परिणेउं (कुप्र ५०) । क.  
परिणेयच्च (सुपा ४५५; कुप्र १३८) ।

परिणेविय (अप) वि [परिणायित] जिसका  
विवाह कराया गया हो वह (सण) ।

परिणेव्वुय देखो परिनिर्व्वुअ (उत्त १८,  
३५) ।

परिण्ण वि [परिण्ण] ज्ञाता, जानकार (आचा  
-१, ५, ६, ४) ।

परिण्ण° देखो परिण्णा° (आचा १, २,  
६, ५) ।

परिण्णा सक [परि + ण्णा] जानना । संऊ.  
परिण्णाय (आचा; भग) । हेऊ. परिण्णादुं  
(शौ) (अभि १८६) ।

परिण्णा लो [परिण्णा] १ ज्ञान, जानकारी  
(आचा; वसु; पंचा ६, २५) । २ विवेक  
(आचा) । ३ पर्यालोचन, विचार (सुय १,

१, १)। ४ ज्ञान-पूर्वक प्रत्याख्यान (ठा ५, २)।  
 परिष्ठाण वि [परिज्ञान] ज्ञान, जानकारी (वर्मसं १२५३; उप पृ २७४)।  
 परिष्ठाणाय देखो परिष्ठाण = परि + ज्ञा।  
 परिष्ठाणाय वि [परिज्ञात] विदित, जाना हुआ (सम १६; आचा)।  
 परिष्ठाण वि [परिज्ञान्] परिज्ञा-युक्त, 'गोय-जुयो उ परिष्ठाणो वह जिणइ परोसहाणोय' (वव १)।  
 परितंत वि [परितान्त] संबंधा खिन, निविणण (णाय १, ४—पत्र ६७; विवा १, १; उव)।  
 परितंवि वि [परिताम्र] विशेष तात्र—अहण वणवाला (गउड)।  
 परितज्ज सक [परि + तर्जय्] तिरस्कार करना। वक्र. परितज्जयंत (पउम ४८, १०)।  
 परितडुविय वि [परितत] खूब फैलाया हुआ (सण)।  
 परितणु वि [परितनु] अत्यन्त प्रतला (सुपा ५८)।  
 परितप्प अक [परि + तप्] १ संतप्त होना, गरम होना। २ पश्चात्ताप करना। ३ दुःखी होना। परितप्पइ (महा; उव); परितप्वंति (सूत्र २, २, ५५), 'ता लोहभारवाहगनहच्च परितप्पसे पच्छा' (वर्मवि ६)। संक. परित-प्पिऊण (महा)।  
 परितप्प सक [परि + तापय्] परिताप उपजाना। परितप्वंति (सूत्र २, २, ५५)।  
 परितप्पण न [परितपण] परितप्त होना (सूत्र २, २, ५५)।  
 परितप्पण न [परितापण] परिताप उपजाना (सूत्र २, २, ५५)।  
 परितल्लिअ वि [परितल्लित] तला हुआ (श्लोष ८८)।  
 परितविय वि [परितप] परिताप युक्त (सण)।  
 परिताण न [परिताण] १ रक्षण। २ वागुरादि वचन (सूत्र १, १, २, ६)।  
 परिताव देखो परितप्प = परि + तापय्।  
 क. परितावेव्य (पि ५७०)।

परिताव पुं [परिताप] १ संताप, वाह। २ पश्चात्ताप। ३ दुःख, पीड़ा (महा; श्लोष)।  
 ०यर वि [०कर] दुःखोत्पादक (पउम ११०, ६)।  
 परितावण देखो परितप्पण = परितापन (श्लोष)।  
 परिताविअ वि [परितापित] १ संतापित (श्लोष)। २ तला हुआ (श्लोष १४०)।  
 परितास पुं [परितास] अकस्मात् होनेवाला भय (णाय १, १—पत्र ३३)।  
 परितुट्टि वि [परितुट्टि] टूटनेवाला (सण)।  
 परितुट्ट वि [परितुट्ट] तोप-प्राप्त, संतुष्ट (उव; वेइय ७०१)।  
 परितुल्लिय वि [परितुल्लित] तौला हुआ (सण)।  
 परितेज्जि देखो परित्तज।  
 परितोल सक [परि + तोलय्] उठाना। वक्र. 'जुगवं परितोलंता खगं समरंगणम्मि तो वोवि' (सुपा ५७२)।  
 परितोस सक [परि + तोपय्] संतुष्ट करना। भवि. परितोसइत्तं (कपूर्. ३२)।  
 परितोस पुं [परितोप] आनन्द, खुशी (नाट—मालवि २३)।  
 परितोसिय वि [परितोपित] संतुष्ट किया हुआ (सण)।  
 परित्त वि [परीत] १ व्याप्त (त्रि १८३)। २ प्रप्रष्ट (सूत्र २, ६, १८)। ३ संख्येय, जिसको गिनती हो सके ऐसा (सम १०६)। ४ परिमित, नियत परिमाणवाला (उप ४१७)। ५ लघु, छोटा। ६ तुच्छ, हलका (उप २७०; ६६४)। ७ एक से लेकर असंख्येय जीवों का आश्रय, एक से लेकर असंख्येय जीववाला (श्लोष ४१)। ८ एक जीववाला (परण १)। ०करण न [०करण] लघुकरण (उप २७०)। ०जीव पुं [०जीव] एक शरीर में एकाकी रहनेवाला जीव (परण १)। ०णंत न [०णन्त] संख्या-विशेष (कम्म ४, ७१; ८३)। ०संसारिअ वि [०संसारिक] परिमित संसारवाला (उप ४१७)। ०संख न [०संख्यात] संख्या-विशेष (कम्म ४, ७१; ७८)।

परित्तज देखो परिष्ठाण। संक. परित्तजिअ (स्वप्न ५१), परित्तेज्जि (अप)। (पिण)।  
 परित्ता } सक [परि + त्त] रक्षण करना।  
 परित्ताइ } परित्ताइ, परित्ताअसु, परित्ताहि, परित्तायह (प्राक ७०; पि ४७६; हे ४, २६८)।  
 परित्ताइ वि [परित्तायिन्] रक्षण-कर्ता (सुपा ४०५)।  
 परित्ताण न [परित्ताण] रक्षण (से १४, ३५; सुपा ७१; आत्मानु ८; सण)।  
 परित्ताणंतय पुंन [परीतानन्तक] संख्या-विशेष (अणु २३४)।  
 परित्तास देखो परित्तास (कम्म)।  
 परित्तासंख्येज्जय पुंन [परीतासंख्येयक] संख्या-विशेष (अणु २३४)।  
 परित्तीकय वि [परीतीकृत] संक्षिप्त किया हुआ, लघुकृत (णाय १, १—पत्र ६६)।  
 परित्तीकर सक [परीती + कृ] लघु करना, छोटा करना। परित्तीकरंति (भग)।  
 परित्थोम न [परित्थोम] १ मस्तक। २ वि. वक्र. 'चितपरित्थोमपच्छद' (श्लोष)।  
 परित्थंभिअ वि [परित्थंभित] स्तब्ध किया हुआ (सुपा ४७५)।  
 परिथु सक [परि + स्तु] स्तुति करना। कवक. परिथुचवंत (सुपा ६०७)।  
 परिथूर } वि [परित्थूर] विशेष स्थूल,  
 परिथूल } लघु मोटा (वर्मसं ८३८; वेइय ८५४; आ ११)।  
 परिदा सक [परि + दा] देना। कर्म. परि-द्विजसु (अप), (पिण)।  
 परिदाइ पुं [परिदाइ] संताप (उत्त २, ८; भग)।  
 परिदिण वि [परित्त] दिया हुआ (अभि १२५)।  
 परिदिइ वि [परिदिग्घ] उपलिप्त (सुह २, ३७)।  
 परिदिन्नि देखो परिदिण (सुपा २२)।  
 परिदेव अक [परि + देव] विलाप करना।  
 परिदेवए (उत्त २, १३)। वक्र. परिदेवंत (पउम २६, ६२; ४५, ३६)।  
 परिदेवण न [परिदेवन] विलाप, 'तस्स कंदणसोयणपरिदेवणवाडणइ लिगाइ' (संबोध ४६; संवे ८)।



परिदेवणया लो [परिदेवना] ऊपर देखो  
(ठा ४, १—पत्र १८८) ।

परिदेवि वि [परिदेविन्] विलाप करनेवाला  
(नाट—शकु १०१) ।

परिदेविअ न [परिदेवित] विलाप (पात्र;  
से ११, ६६; सुर २, २४१) ।

परिदो अ [परितस्] चारों ओर से (गा  
४५४ अ) ।

परिधम्म पुं [परिधर्म] छन्द-विशेष (पिंग) ।

परिधवलिय वि [परिधवलित] खूब सफेद  
किया हुआ (सण) ।

परिधाम पुंन [परिधामन्] स्थान (सुपा  
४६३) ।

परिधाविअ वि [परिधावित] दौड़ा हुआ  
(हम्मोर ३२) ।

परिधाविर वि [परिधावित्] दौड़नेवाला  
(सण) ।

परिधूणिय वि [परिधूणित] अत्यन्त कौपाया  
हुआ (सम्मत्त १३६) ।

परिधूसर वि [परिधूसर] धूसर वर्णवाला  
(वज्जा १२८; गउड) ।

परिनट्ट वि [परिनट्ट] विनष्ट (महा) ।

परिनिक्खम देखो पाडिनिक्खम । परिनिक्ख-  
मेइ (कप्प) ।

परिनिट्टिय देखो परिणिट्टिय (कप्प; रंभा  
३०) ।

परिनिय सक [परि + ट्ठा] देखना, अव-  
लोकन करना । वहु. परिनियंत (सुपा  
५२२) ।

परिनिविट्ट वि [परिनिविट्ट] ऊपर बैठ  
हुआ (सुपा २६६) ।

परिनिविड वि [परिनिविड] विशेष निविड  
या पना (महा) ।

परिनिब्बा देखो परिणिब्बा । परिनिब्बाइ  
(भा), परिनिब्बाइति (कप्प) । भवि. परि-  
निब्बाइस्सति (भग) ।

परिनिब्बाण देखो परिणिब्बाण (साया १,  
८; ठा १, १; भग; कप्प; पत्र १३८ टी) ।

परिनिच्चुअ } वि [परिनिच्चुत्] १ मुक्त,  
परिनिच्चुअ } मोक्ष को प्राप्त (ठा १, १;  
पत्र २०, ८४; कप्प) । २ शान्त, ठंडा

(सूअ १, ३, ३, २१) । ३ स्वस्थ (सुपा  
१८३) ।

परिन्न देखो परिणज (आचा) ।

परिन्न° देखो परिण्ण° (आचा) ।

परिन्ना देखो परिण्णा (उप ५२५) ।

परिन्नाण देखो परिण्णाण (आचा) ।

परिन्नाय देखो परिण्णाय = परिज्ञात (सुपा  
२६२) ।

परिन्नाय वि [प्रतिज्ञात] जिसकी प्रतिज्ञा की  
गई हो वह (पिड २८१) ।

परिपंडुर } वि [परिपाण्डुर] विशेष  
परिपंडुल } पाण्डुर—बूसर वर्ण वाला (सुपा  
२५६; कप्प; गउड; से १०, ३३) ।

परिपंथग वि [प्रतिपथक] दुश्मन, विरोधी,  
प्रतिकूल (स १०५) ।

परिपंथिअ } वि [परिपन्थिक] ऊपर देखो  
परिपंथिग } (स ७४६; उप ६३६) ।

परिपक्क वि [परिपक्क] पका हुआ (पत्र  
४; भवि) ।

परिपल्लिअ (अप) वि [परिपलित] गिरा  
हुआ (पिंग) ।

परिपाग पुं [परिपाक] विपाक, फल; 'पुत्र-  
भवविहियसुचरिअपरिपागो एस उदयसंपत्तो'  
(रयण ५२; आचा) ।

परिपाडल वि [परिपाटल] सामान्य लाल  
रंगवाला, गुलाबी रंग का (गउड) ।

परिपाडिअ वि [परिपाटित] फाड़ा हुआ,  
विदारित (दे ७, ६१) ।

परिपाल सक [परि + पालय्] रक्षण  
करना । परिपालइ (भवि) । क. परि-  
पालणीअ (स्वप्न २६) । संक. परिपालिउं  
(सुपा ३४२) ।

परिपालण न [परिपालन] रक्षण (कुप्र  
२२६; सुपा ३०८) ।

परिपालिय वि [परिपालित] रक्षित (भवि) ।

परिपासय [दे] देखो परिवास (दे)  
(पात्र) ।

परिपिअ सक [परि + पा] पीना, पान  
करना । कवहु. परिपिउजंत (नाट—  
चैत ४०) ।

परिपिजर वि [परिपिज्जर] विशेष पीत-  
रक्त वर्णवाला (गउड) ।

परिपिडिय वि [परिपिण्डित] १ एकत्र  
समुदित, इकट्ठा किया हुआ (पिड ४६७) ।

२ न. गुरु-चन्दन का एक दोष (धर्म २) ।

परिपिक्क देखो परिपक्क (पि १०१) ।

परिपिज्जंत देखो परिपिअ ।

परिपिट्ठण न [परिपिट्ठन] पीटना, ताड़न  
(वव १) ।

परिपिरिया लो [दे] वाद्य-विशेष (भग ५,  
४—पत्र २१६) ।

परिपिल्ल सक [परिप्र + ईरय्] प्रेरणा ।  
परिपिल्लइ (सुपा ६४) ।

परिपिहा सक [परिपि + धा] ढकना,  
आच्छादन करना । संक. परिपिहिता,  
परिपिहेत्ता (कप्प; पि ५८२) ।

परिपीडिय वि [परिपीडित] जिसको पीड़ा  
पहुँचाई गई हो वह (भवि) ।

परिपील सक [परि + पीडय्] १ पीड़ना ।  
२ पीलना, दवाना । परिपीलेज्जा (पि  
२४०) । संक. परिपीलेत्ता, परिपीलिय,  
परिपीलियाण (भग; राज; आचा २, १,  
८, १) ।

परिपीलिअ देखो परिपीडिअ (राज) ।

परिपुंगल वि [दे] श्रेष्ठ, उत्तम (?) ; 'जंपइ  
भविसयत्तु परिपुंगलु होसइ रिद्धिविद्धिसुह-  
मंगलु' (भवि) ।

परिपुच्छ सक [परि + प्रच्छ] प्रश्न  
करना । परिपुच्छइ (भवि) ।

परिपुच्छण न [परिप्रच्छन] प्रश्न, पृच्छा  
(भवि) ।

परिपुच्छिअ } वि [परिपृष्ट] पूछा हुआ,  
परिपुच्छ } जिज्ञासित (गा ६२३; भवि;  
सुपा ३८७) ।

परिपुष्ण } वि [परिपूर्ण] संपूर्ण (भग;  
परिपुष्ण } भवि) ।

परिपुस सक [परि + स्पुश] संस्पर्श  
करना । परिपुसइ (से ४, ५) ।

परिपुज सक [परि + पूजय्] पूजना ।  
परिपुजअ (अप) (पिंग) ।

परिपूणा पुं [दे. परिपूर्णक] पक्षि-विशेष  
का नीड, सुयरी नामक पक्षी का घोंसला  
(विसे १४५४; १४६५) ।

परिपूणा पुं [दे. परिपूर्णक] धी-हूब गालने  
का कपड़ा, छानना (एण्डि ५४) ।

परिपूय वि [परिपूत] छाना हुआ (कप्प; तंदु ३२)।

परिपूर सक [परि + पूरय्] पूर्ण करना, भरपूर करना। वक्र. परिपूरंत (पि ५३७)।

संक्र. परिपूरिअ (नाट—मालवि १५)।

परिपूरिय वि [परिपूरित] भरपूर, व्याप्त (सुर २, ११)।

परिपेच्छ सक [परिग्र + ईक्ष्] देखना। वक्र. परिपेच्छंत (अच्चु ६३)।

परिपेरंत पुं [परिपर्यन्त] प्रान्त भाग (णाय्या १, ४; १३; सुर १५, २०२)।

परिपेरिय वि [परिप्रेरित] जिसको प्रेरणा की गई हो वह (सुपा १८६)।

परिपेलव वि [परिपेलव] १ सुकर, सहज, सहल, आसान (से ३, १३)। २ अहट्ट। ३ निःसार। ४ बराक, दीन (राज)।

परिपेद्धिअ देखो परिपेरिय (गा ५७७)।

परिपेस सक [परिग्र + इप्] भेजना। परिपेसइ (भवि)।

परिपेसण न [परिपेपण] भेजना (भवि)।

परिपेसल वि [परिपेशल] सुन्दर, मनोहर (सुपा १०६)।

परिपेसिय वि [परिप्रेषित] भेजा हुआ (भवि)।

परिपोस सक [परि + पोषय्] पुष्ट करना। क्वक. परिपोसिज्जंत (राज)।

परिप्पमाण न [परिग्रमाण] परिमाण (भवि)।

परिप्पव सक [परि + प्लु] तैरना, गोता लगाना। वक्र. परिप्पवंत (से २, २८; १०, १३; पाग्र)।

परिप्पुय वि [परिप्लुत] आप्लुत, व्याप्त (राज)।

परिप्पुया ली [परिप्लुता] दीक्षा-विशेष (राज)।

परिप्फंद पुं [परिस्पन्द] १ रचना-विशेष, 'जयइ वायापरिप्फंदो' (गडड)। २ समन्तांत चलन (चाह ४५)। ३ चेष्टा, प्रयत्न; 'धोया रंभेवि विहिम्मि आयसग्गे व्व खंडणमुवेत्ति। सं-परिप्फंदेणं चिय णीआ भमिदास्सयलं व' (गडड)।

परिप्फुड वि [परिस्फुट] अत्यन्त स्पष्ट (से ११, ६०; सुर ४, २१४; भवि)।

परिप्फुड पुं [परिस्फोट] १ प्रस्फोटन, भेदन। २ वि. फोड़नेवाला, विभेदक; 'तमपडल-परिप्फुडं चैव त्रेयसा पज्जलंतल्लव' (कप्प)।

परिप्फुर अक [परि + स्फुर] चलना। परिप्फुरिदि (शौ) (नाट—उत्तर २८)।

परिप्फुरण न [परिस्फुरण] हिलन, चलन (सण)।

परिप्फुरिअ वि [परिस्फुरित] स्फूर्ति-युक्त, 'वयणु परिप्फुरिअ' (भवि)।

परिफंस पुं [परिस्पर्श] स्पर्श, छूना (पि ७४; ३११)।

परिफंसण न [परिस्पर्शन] ऊपर देखो (उप ६८६ टी)।

परिफग्गु वि [परिफल्गु] निस्सार, असार (धम्मसं ६५३)।

परिफासिय वि [परिस्पृष्ट] व्याप्त (दस ५, १, ७२)।

परिफुड देखो परिप्फुड = परिस्फुट (पउम ३, ८; प्रासू ११६)।

परिफुडिय वि [परिस्फुटित] फूटा हुआ, भग्न (पउम ६८, १०)।

परिफुर देखो परिप्फुर। परिप्फुरइ (सण)। वक्र. परिफुरंत (सण)।

परिफुरिअ देखो परिप्फुरिय (सण)।

परिफुद्धिअ वि [परिफुद्धित] फूला हुआ, कुसुमित (पिंग)।

परिफुस सक [परि + स्पृश] स्पर्श करना, छूना। वक्र. परिफुसंत (धम्मवि १२६; १३६)।

परिफुसिय वि [परिप्रोच्छिद्यत] पीछा हुआ (उप पृ ६४)।

परिफोसिय वि [परिस्पृष्ट] छूना हुआ, 'उदगपरिफोसियाए दग्गोन्नरिपच्चत्थुयाए भिसियाए णिसीयति' (णाय्या १, १६; उप ६४८ टी)।

परिवूहण न [परिवृंहण] वृद्धि, उपचय (सुअ २, २, ६)।

परिवभंत वि [दि] १ निपिद्ध, निवारित। २ भौक, डरपोक (दे ६, ७२)।

परिवभंसिद (शौ) नीचे देखो (मा ५०)।

परिवभट्ट वि [परिभ्रष्ट] पतित, स्वलित (णाय्या १, १३; सुपा ५०६; अभि १४४)।

परिवभम सक [परि + भ्रम्] पर्यटन करना, भटकना। परिवभमइ (प्राक ७६; भवि; उव)। वक्र. परिवभमंत (सुर २, ८७; ३, ४; ४, ७१; भवि)।

परिवभमण न [परिभ्रमण] पर्यटन (महा)।

परिवभमिअ वि [परिभ्रान्त] भटका हुआ (वे ६३; सण; भवि)।

परिवभोअ वि [परिभोत] भय-प्राप्त (पउम ५३, ३६)।

परिवभूअ वि [परिभूत] पराभव-प्राप्त (सुपा २५८)।

परिभग्ग वि [परिभग्न] भाँगा हुआ (आत्मानु १४)।

परिभट्ट देखो परिवभट्ट (महा; पि ८५)।

परिभणिर वि [परि + भणित्] कहनेवाला (सण)।

परिभम देखो परिवभम। परिभमइ (महा)। वक्र. परिभमंत, परिभममाण (महा; सण; भवि; संवेग १४)। संक्र. परिभमिऊणं (पि ५८५)। हेक. परिभमिउं (महा)।

परिभमिअ देखो परिवभमिअ (भवि)।

परिभमिर वि [परिभ्रमित्] पर्यटन करने-वाला (सुपा २६६)।

परिभव सक [परि + भू] पराजय करना, तिरस्कारना। परिवभवइ (उव)। कर्म. परि-भविज्जामि (मोह १०८)। क. परिभवणिज्ज (णाय्या १, ३)।

परिभव पुं [परिभव] पराभव, तिरस्कार (औप; स्वप्न १०; प्रासू १७३)।

परिभवंत पुं [परिभवन्] पार्थस्य साधु, शिथिलाचारी मुनि (वव १)।

परिभवण न [परिभवण] ऊपर देखो (राज)।

परिभवणा ली [परिभवण] ऊपर देखो (औप)।

परिभविअ वि [परिभूत] अभिमूत (धम्मवि ३६)।

परिभाअ सक [परि + भाजय्] बाँटना, विभाग करना। परिभाएइ (कप्प)। वक्र. परिभाइंत, परिभायंत, परिभाएमाण (आचा २, ११, १८; णाय्या १, ७—पत्र ११७; १, १; कप्प)। क्वक. परिभाइज्ज-

माण (राज) । संक्र. परिभाइत्ता, परिभायइत्ता (कम्म; औप) । हेह. परिभाएई (पि ५७३) ।

परिभाइय वि [परिभाजित] विमक्त किया हुआ (आचा २, २, ३, २) ।

परिभायंत देखो परिभाय ।

परिभायण न [परिभाजन] बंटवा देना (पिठ १६३) ।

परिभाय सक [परि + भावय्] १ पर्यालोचन करना । २ उन्नत करना । परिभावइ (महा) । संक्र. परिभाविऊण (महा) । क्र. परिभावणीय (राज) ।

परिभायइत्त वि [परिभावयित्त] प्रभावक, उल्लिखित (ठा ४, ४—पत्र २६५) ।

परिभावि वि [परिभाविन्] परिवर्तन करनेवाला (अग्नि ७१) ।

परिभास सक [परि + भाप्] १ प्रतिपादन करना, कहना । २ निन्दा करना । परिभासइ, परिभासति, परिभासेइ, परिभासए (उत्त १८, २०; सूत्र १, ३, ३, ८; २, ७, ३६; विमे १४४३) । वक्र. परिभासमाय (पउम ५३, ६७) ।

परिभासा दी [परिभापा] १ संकेत (संशोध ५८; भास १६) । २ तिरस्कार । ३ चुष्टि, टीका-विशेष (राज) ।

परिभासि वि [परिभापिन्] परिवर्तनकर्ता, 'राश्लिक्खपरिभासो' (सम ३७) ।

परिभासिय वि [परिभापित] प्रतिपादित (सूत्रानि ८८; भास २१) ।

परिभिद् सक [परि + भिद्] नेदन करना । वक्र. परिभिज्जनाय (उप पृ ६७) ।

परिभीय वि [परिभीय] उदा हुआ (उप) ।

परिभुंज सक [परि + भुंज्] १ खाना, भोजन करना । चरन करना, लेना । ३ बारबार उपभोग में लेना । कम्म. परिभुंजिज्जइ परिभुंजइ (पि ५४६; गच्छ २, ५१) ।

वक्र. परिभुंजित, परिभुंजमाण (निचू १; राया १, १; कम्म) । वक्र. परिभुंजमाण (अम. उप पृ ६८; खाना १, १—पत्र ३७) ।

हेह. परिभोत्त (उत्त ५, १) । क्र. परिभोग, परिभोत्तव (निचू ३४; कम्म) ।

परिभुंजण न [परिभोजन] परिभोग (उप १३४ दी) ।

परिभुंजणया वी [परिभोजना] ऊपर देखो (सम ४४) ।

परिभुत्त वि [परिभुत्त] जिसका परिभोग किया गया हो वह (सुपा ३००) ।

परिभुत्त वि [परिवृत्त] वेष्टित, परिकरित, परिभुय वि [लेपटा हुआ, घेरा हुआ (आचा २, ११, ३; २, ११, १६) ।

परिभूअ वि [परिभूत] अनिभूत, तिरस्कृत (सूत्र २, ७, २; सुर १६, १२६; चैदय ७१४; महा) ।

परिभोअ देखो परिभोग (अग्नि १११) ।

परिभोइ वि [परिभोगिन्] परिभोग करनेवाला (पि ४०५; नाट—शकु ३५) ।

परिभोग पुं [परिभोग] १ बारबार भोग (ठा ५, ३ टो; आव ६) । २ जिसका बारबार भोग किया जाय वह वस्त्र आदि (औप) । ३ जिसका एक ही बार भोग किया जाय—जो एक ही बार काम में लाया जाय वह—आहार, पान आदि (उवा) । ४ बाह्य वस्तुओं का भोग (आव ६) । ५ आसेवन (परह १, ३) ।

परिभोग

परिभोत्तव देखो परिभुंज ।

परिभोत्तु

परिमइल सक [परि + मृज्] मार्जन करना (संदि ३५) ।

परिमइअ वि [परिमइलक] १ विशेष कोमल । २ अत्यन्त सुकर, तरल (धम्मसं ७६१; ७६२) । दी. उई (विसे ११६६) ।

परिमउलिअ वि [परिसुकुलित] चारों ओर से संकुचित (सण) ।

परिमंडण न [परिमण्डन] अलंकरण, विभूषण (उत्त १६, ६) ।

परिमंडल वि [परिमण्डल] वृत्त, गोलाकार (सूत्र २, १, १५; उत्त ३६, २२; स ३१२; पात्र औप; पण १; ठा १, १) ।

परिमंडिय वि [परिमण्डित] विभूषित, सुशोभित (कम्म; औप; सुर ३, १२) ।

परिमंधर वि [परिमन्धर] मन्द, धीना (गउड; स ७१६) ।

परिमथिअ वि [परिमथित] अत्यन्त आलोडित (सम्मत्त २२६) ।

परिमंद वि [परिमन्द] मन्द, अशक्त (सुर ४, २४०) ।

परिमग्ग सक [परि + मार्गय्] १ अन्वेषण करना, खोजना । २ मांगना, प्रार्थना करना । वक्र. परिमग्गमाण (नाट—विक्र ३०) । संक्र. परिमग्गेउं (महा) ।

परिमग्गि वि [परिमार्गिन्] खोज करनेवाला (गा २६१) ।

परिमज्जिर वि [परिमज्जित्] डूबनेवाला (सुपा ६) ।

परिमट्ट वि [परिमृष्ट] १ घिसा हुआ (से ६, २; न. ४३) । २ आस्फालित; 'परिमट्टमेहसिहरो' (से ४, ३७) । ३ मार्जित, शोधित (कम्म) ।

परिमइ सक [परि + मर्दय्] मर्दन करना । वक्र. परिमइयंत (सुर १२, १७२) ।

परिमइण न [परिमर्दन] मर्दन, मालिश (कम्म; औप) ।

परिमदा वी [परिमर्दा] संवाचन, दवाना, पैचणी—पैर दवाना आदि (निचू ३) ।

परिमन्न सक [परि + मन्] आवर करना । परिमन्नइ (अवि) ।

परिमल सक [परि + मल्, मृद्] १ घिसना । २ मर्दन करना; 'जो मरणपालि परिमलइ हट्थु' (कुप्र ४५२),

'एलिरासु भमसि परिमलसि सत्तलं मालइपि एो मुअसि ।

तरलत्तणं तुइ अहो महुअर जइ पाउला हरइ ॥

(गा ६१६) ।

परिमल पुं [परिमल] १ कुंकुम-चन्दनादि का मर्दन (से १, ६४) । २ सुगन्ध (कुमा; पात्र) ।

परिमलण न [परिमलन] १ परिमर्दन । २ विचार (गा ४२८; गउड) ।

परिमलिअ वि [परिमलित, परिमृदित] जिसका मर्दन किया गया हो वह (गा ६३७; से ७, ६२; महा; वज्जा ११८) ।

परिमहिय वि [परिमहित] पूजित (पउम १, १) ।

परिमा (अप) देखो पडिमा (भवि) ।  
 परिमाइ लो [परिमाति] परिमाण. 'जिण-  
 सासणि द्दञ्जीवदयाइ व पंडियमरणि सुगइ-  
 परिमाइ व' (भवि) ।  
 परिमाण न [परिमाण] मान, माप, नाप  
 (श्रौप, स्वप्न ४२; प्रासू ८७) ।  
 परिमास पुं [परिमर्श] स्पर्श (शाया १, ६;  
 गउड; से ६, ४८; ६, ७६) ।  
 परिमास पुं [दे] नौका का काष्ठ-विशेष  
 (शाया १, ६—पत्र १५७) ।  
 परिमासि वि [परिमर्शिन] स्पर्श करनेवाला  
 (पि ६२) ।  
 परिमिज्ज नीचे देखो ।  
 परिमिण सक [परि + मा] नापना, तौलना ।  
 वक्र. परिमिणंत (सुपा ७७) । क. परिमिज्ज,  
 परिमेय (पत्र ५६; पउम ४६, २२) ।  
 परिमिअ वि [परिमित] परिमाण-युक्त  
 (कण; ठा ५, १; श्रौप; पएह २, १) ।  
 परिमिअ वि [परिवृत] परिकरित, वेष्टित  
 (पउम १०१, भवि) ।  
 परिमिळा अक [परि + म्लै] म्लान होना ।  
 परिमिळादि (शौ) (पि १३६; ४७६) ।  
 परिमिळाण वि [परिम्लान] म्लान, विच्छाय,  
 निन्तेज (महा) ।  
 परिमिळ्हरि वि [परिमोक्त] परित्याग करने-  
 वाला (सण) ।  
 परिमुअ सक [परि + मुच्] परित्याग  
 करना । परिमुअइ (सण) ।  
 परिमुक्क वि [परिमुक्त] परित्यक्त (सुपा  
 २५२; महा; सण) ।  
 परिमुट्ट वि [परिमुट्ट] स्पृष्ट (मा ४४) ।  
 परिमुण सक [परि + ज्ञा] जानना । परि-  
 मुणसि (वजा १०४) ।  
 परिमुणिअ वि [परिज्ञात] जाना हुआ  
 (पउम १६, ६१; सण) ।  
 परिमुस सक [परि + मुप्] चोरी करना ।  
 वक्र. परिमुसंत (था २७) । संक. परिमु-  
 सिऊण (कपूर २६) ।  
 परिमुस सक [परि + मृश] स्पर्श करना,  
 छूना । परिमुसइ (भवि) ।  
 परिमुसण न [परिमोपण] १ चोरी । २  
 वञ्चना, ठगाना (गा २६) ।

परिमुसिअ वि [परिमुट्ट] स्पृष्ट (महानि ४;  
 भवि) ।  
 परिमुसण देखो परिमुसण (गा २६) ।  
 परिमेय देखो परिमिण ।  
 परिमोक्कल वि [दे. परिमुक्त] स्वैर,  
 स्वच्छन्दी (भवि) ।  
 परिमोक्ख पुं [परिमोक्ष] १ मोक्ष, मुक्ति  
 (आचा) । २ परित्याग (सूत्र १, १२, १०) ।  
 परिमोय सक [परि + मोचय] छोड़ाना,  
 छुटकारा कराना । परिमोयह (सूत्र २, १,  
 ३६) ।  
 परिमोयण न [परिमोचन] मोक्ष, छुटकारा  
 (सुर ४, २५०; श्रौप) ।  
 परिमोस पुं [परिमोप] चोरी (महा) ।  
 परियंच सक [परि + अञ्च] १ पास में  
 जाना । २ स्पर्श करना । ३ विभूषित करना ।  
 संक. परिअंचिवि (अप) (भवि) ।  
 परियंच सक [परि + अच्] पूजना । संक.  
 परिअंचिवि (अप) (भवि) ।  
 परियंचण न [पर्यञ्चन] स्पर्श करना (सुख  
 ३, १) । देखो पलियंचण ।  
 परियंचिअ वि [पर्यञ्चित] विभूषित, 'पव-  
 रारामगामपरियंचिअ' (भवि) ।  
 परियंचिअ वि [पर्यंचित] पूजित (भवि) ।  
 परियंद सक [परि + वन्द] वन्दन करना,  
 स्तुति करना । कवक. परियंदिज्जमाण  
 (श्रौप) ।  
 परियंदण न [परिवन्दन] वन्दन, स्तुति  
 (आचा) ।  
 परियच्छ सक [दृश] १ देखना । २  
 जानना । परियच्छइ (भवि; उव), परियच्छंति  
 (उव) ।  
 परियच्छय देखो परिकच्छय (राज) ।  
 परियच्छो लो [परिकक्षी] परदा (धर्मरत्न  
 वृ० गा० ३१ पत्र २५, २) ।  
 परियत्थि लो [पर्यस्ति] देखो पल्लहत्थिया,  
 'जत्तो वायइ पवणो परियत्थी दिज्जप तत्तो'  
 (चिइय १३०) ।  
 परियप्प सक [परि + कल्पय] कल्पना  
 करना, चिन्तन करना । वक्र. परियप्पमाण  
 (आचा १, २, १, २) ।

परियप्पण न [परिकल्पन] कल्पना (धर्मसं  
 १२०८) ।  
 पारयय पुं [परिचय] जान-पहचान, विशेष  
 रूप से ज्ञान (गउड; से १५, ६६; अग्नि  
 १३१) ।  
 परियय वि [परिगत] अन्वित, युक्त (स  
 २२) ।  
 परियाइ सक [पर्या + दा] १ समन्ताद्  
 ग्रहण करना । २ विभाग से ग्रहण करना ।  
 परियाइयह (सूत्र २, १, ३७) । संक.  
 परियाइत्ता (ठा ७) ।  
 परियाइअ वि [पर्यात्त] संपूर्ण रूप से गृहीत  
 (ठा २, ३—पत्र ६३) ।  
 परियाइअ देखो परियाइय (ठा २, ३—पत्र  
 ६३) ।  
 परियाइणया लो [पर्यादान] समन्ताद्  
 ग्रहण (परण ३४—पत्र ७७४) ।  
 परियाइत्त वि [पर्याप्त] काफी (राज) ।  
 परियाइय वि [पर्यायातीत] पर्याय को  
 अतिक्रान्त (राज) ।  
 परियाग देखो पजाय (श्रौप; उवा; महा;  
 कण) ।  
 परियागय वि [पर्यागत] १ पर्याय से  
 आगत (उत्त ५, २१; सुख ५, २१; शाया  
 १, ३) । २ सर्वथा निष्पन्न (शाया १, ७—  
 पत्र ११६) ।  
 परियाग सक [परि + ज्ञा] जानना ।  
 परियाणइ, परियाणाइ (पि १७०; उवा) ।  
 परियाण न [परिचाण] रक्षण (सूत्र १, १,  
 २, ६; ७) ।  
 परियाण न [परिदान] १ विनिमय, बदला,  
 लेनदेन । २ समन्ताद् दान (भवि) ।  
 परियाण न [परियान] १ गमन (ठा १०) ।  
 २ वाहन, यान (ठा ८) । ३ अवतरण (ठा  
 ३, ३) ।  
 परियाणण न [परिज्ञान] जानकारी (स  
 १३) ।  
 परियाणिअ वि [परिचाणित] परिचाण-  
 युक्त (सूत्र १, १, २, ७) ।  
 परियाणिअ वि [परिज्ञात] जाना हुआ,  
 विदित (पउम ८८, ३३; रत्न १८; भवि) ।

परियाणिअ पुंन [परियानिक] ? यान, वाहन । २ विमान-विशेष (ठा ८) ।  
 परियादि देवो परियाइ । परियादिवति (कप्प) । संक. परियादित्ता (कप्प) ।  
 परियाय देवो पजाय (ठा ४, ४; मुपा १६; विंसे २७६१; औप; आचा: उवा) । ६ यन्निप्राय, मत; 'सहि परियाएहि लोयं वूया कडंति य' (सूत्र १, १, ३, ६) । १० प्रव्रज्या, दीक्षा (ठा ३, २—पत्र १२६) । ११ ब्रह्मचर्यं (आव ४) । १२ जिन-देव के केवल-ज्ञान की उत्पत्ति का समय (गाया १, ८) । १३ 'थेर पुं [स्थविर] दीक्षा की अपेक्षा से बृद्ध (ठा ३, २) ।  
 परिआयंतकरभूमि वी [पर्यायान्तकृद्-भूमि] जिन-देव के केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय से लेकर तदनन्तर सर्व प्रथम मुक्ति पानेवाले के बीच के समय का अन्तर (गाया १, ८—पत्र १५४) ।  
 परिवार सक [परि + चारय] ? सेवा-शुभ्रूपा करना । २ संनोग करना, विषय-सेवन करना । परिवारेइ (ठा ३, १; नग) । वक्र. परिवारमाण (राज) । कवक. परिचारिजमाण (ठा १०) ।  
 परिवार पुं [परिचार] मैथुन, विषय-सेवन (पण ३४—पत्र ७८०; ठा ३, १) ।  
 परिवारग वि [परिचारक] ? विषय-सेवन करनेवाला (पण २; ठा २, ४) । २ सेवा-शुभ्रूपा करनेवाला (विपा १, १) ।  
 परिवारण न [परिचारण] ? सेवा-शुभ्रूपा (मुअ १८—पत्र २६५) । २ काम-भोग (पण ३४) ।  
 परिवारणाया } वी [परिचारणा] ऊपर  
 परिवारणा } देवो (पण ३४; ठा ५, १) । गइ पुं [शब्द] विषय-सेवन के समय का वी का शब्द (निपु १) ।  
 परिवाल देवो परिवार (राय ५४) ।  
 परिवालोयण न [पर्यालोचन] विचार, चिन्तन (मुपा ५००) ।  
 परियाव देवो परिताव = परिताप (आचा: औप १५६) ।  
 परियावन्न भठ [पर्या + पन्न] ? पीडित होता । २ हान्तर में परिणत होता । ३

सक. सेवना । परियावज्जइ, परियावज्जंति (कप्प; आचा) ।  
 परियावज्जण न [पर्यापादन] हान्तर-प्राप्ति (विड २८०) ।  
 परियावज्जणा वी [पर्यापादन] आसेवन (ठा ३, ४—पत्र १७४) ।  
 परियावण देवो परितावण (सूत्र २, २, ६२) ।  
 परियावणा वी [परितापना] परिताप-संताप (औप) ।  
 परियावणिया वी [परियापनिका] कालान्तर तक अवस्थान, स्थिति (गाया ६, १४—पत्र १८६) ।  
 परियावण } वि [पर्यापन्न] स्थित, अन्न-  
 परियावन्न } स्थित (आचा २, १, १, १७; न; नग ३४, २; कष) ।  
 परियावन्न वि [पर्यापन्न] लब्ध, प्राप्त (आचा २, १, ६, ६) ।  
 परियावस सक [पर्या + वासय] आवास करना । परियावसे (उत्त १८, ५४; मुअ १८, ५४) ।  
 परियावसइ पुं [पर्यावसथ] मठ, संन्यासी का स्थान (आचा २, १, ८, २) ।  
 परियाविय वि [परितापित] पीडित (पडि) ।  
 परियाविय वि [परिवासित] वासी स्था हुआ (कस) ।  
 परिरंज सक [भञ्ज] भांगना, तोड़ना । परिरंजइ (प्राठ ७४) ।  
 परिरंभ सक [परि + रभ] आलिप्त करना । परिरंभल्लु (शौ) (पि ४६०) । संक. परिरंभिउं (कुप्र २४२) ।  
 परिरंभण न [परिरम्भन] आलिप्तन (पाअ; गा ८३५; मुपा २; ३६६) ।  
 परिरक्ख सक [परि + रक्ख] परिपालन करना । परिरक्खइ (भवि) । क. परिरक्खणीअ (सिन्ता ३१) ।  
 परिरक्खण न [परिरक्षण] परिपालन (गा ६०१; भवि) ।  
 परिरक्खा वी [परिरक्षा] ऊपर देवो (पउम ५६, ५३; धर्मवि ५३; गउड) ।  
 परिरक्खिय वि [परिरक्षित] परिपालित (भवि) ।

परिरद्ध वि [परिरब्ध] आलिप्त (गा ३६८) ।  
 परिरय पुं [परिरय] ? परिधि, परिक्षेप (उत्त ३६, ५६; पउम ८६, ६१; पत्र १५८; औप) । २ पर्याय, समानार्थक शब्द; 'एगपरिरयत्ति वा एगपज्जायत्ति वा एगणामभेदत्ति वा एगद्धा' (आचू १) । ३ परित्रमण, फिर कर जाना; 'अहवा येरो, तस्स य अंतराड्ढा डंगरा वा, जे समत्वा ते उज्जुएण वच्चंति, जो असमत्तो सो परिरएणं—भमाडेण वच्चइ' (औपभा २० टी) ।  
 परिराय अक [परि + राज] विराजना, शोभना । वक्र. परिरायमाण (कप्प) ।  
 परिरिख सक [परि + रिद्ध] चलना, फरकना, हिलना । वक्र. परिरिखमाण (उप ५३० टी) ।  
 परिरंभ सक [परि + रुध] रोकना, अटकाना । कर्म. परिरुद्धइ (गउड ४३४) । संक. परिरंभिऊण (उक्कु १) ।  
 परिलंघि वि [परिलङ्घिन] लंघन करनेवाला (गउड) ।  
 परिलंघि वि [परिलम्बिन] लटकनेवाला (गउड) ।  
 परिलंभिअ वि [परिलम्भित] प्राप्त कराया हुआ, 'सो गयवरो मुणीणं (मुणीहि) वयाणि परिलंभिओ पसन्नप्पा' (पउम ८४, १) ।  
 परिलग्ग वि [परिलग्न] लगा हुआ, व्यापृत (उप ३५६ टी) ।  
 परिलिअ वि [दे] लीन, तन्मय (दे ६, २४) ।  
 परिली अक [परि + ली] लीन होना । वक्र. परिलित्त, परिलित्त, परिलीयमाण (गाया १, १—पत्र ५; औप; से ६, ४८; पण १, ३; राय) ।  
 परिली वी [दे] आतोद्य-विशेष, एक तरह का वाजा (राज) ।  
 परिलीण वि [परिलीन] निलीन (पाअ) ।  
 परिलुंय सक [परि + लुंय] लुप्त करना, अदृष्ट करना । कवक. परिलुंयमाण (महा) ।  
 परिल्लेत्त देवो परिली = परि + ली ।  
 परिखोयण न [परिलोचन, परिखोकन] अवलोकन, निरीक्षण । २ वि. देखनेवाला; 'जुगंतरपरिलोयणाए दिट्ठीए' (उवा) ।

परिह देखो पर = पर (ति ६, १७)।  
 परिहवास वि [दे] अज्ञात-गति (दे ६, ३३)।  
 परिहो देखो परिली = दे (राय ४६)।  
 परिहो देखो परिली। वक्र. परिहित,  
 परिहित (श्रीप)।  
 परिहस अक्र [ परि + हस् ] गिर पड़ना।  
 सरक जाना। परिहसइ (हे ४, १६७)।  
 परिवहत्तु वि [परिवहत्तु] गमन करने में  
 समय (ठा ४, ४—पत्र २७१)।  
 परिवहकड (अप) वि [परिवहक] सर्वथा टेढ़ा  
 (भवि)।  
 परिवहं सक [परिवहं] ठगना। संक्र.  
 परिवहं चिऊण (सम्मत् ११८)।  
 परिवहं चिअ वि [परिवहं चित] जो ठगा गया  
 हो (दे ४, १८)।  
 परिवहं थि वि [परिवहं थि] विरोधो, दुश्मन  
 (पि ४०५; नाट—विक्र ७)।  
 परिवहण न [परिवहण] स्तुति, प्रशंसा  
 (आचा)।  
 परिवहं दिय वि [परिवहं दित] स्तुत, पूजित  
 (पउम १, ६)।  
 परिवहं सिय देखो परिवहं चिअ (श्रीप)।  
 परिवहं गुं [परिवहं] परिजन-वर्ग (पउम  
 २३, २४)।  
 परिवहं न [दे] अवधारण, निश्चय; 'साम-  
 गत्य परिवहं' (कल्पना २१४२)।  
 परिवहं चिअ देखो परिकचिअ; 'उजलनेवह-  
 ह्वपरिवहं चिअ' (राया १, १६ टी—पत्र  
 २२१; श्रीप)। देखो परिवहं थिअ।  
 परिवहं सक [प्रति + पद्] लोकार करना।  
 परिवहं जइ (भवि)।  
 परिवहं सक [ परि + वर्ज्य ] परिहार  
 करना, परित्याग करना। परिवहं जइ (भवि)।  
 संक्र. परिवहं जिय, परिवहं जियाण (आचा,  
 पि ५६२)।  
 परिवहं जण न [परिवहं जण] परित्याग (धर्मसं  
 ११२०)।  
 परिवहं जणा वी [परिवहं जणा] ऊपर देखो  
 (उव)।  
 परिवहं जिय वि [परिवहं जित] परित्यक्त (उवा;  
 भग; भवि)।

परिवहं देखो परिवहं = परि + वतंय्। परि-  
 वहं (भवि)। संक्र. परिवहं चिअ (अप)  
 (भवि)।  
 परिवहं न [परिवहं न] आवतंन, आवृत्ति;  
 'आगमपरिवहं' (संकोष ३६)।  
 परिवहं देखो परिवहं चिअ (मा ५२)।  
 परिवहं चिअ देखो परिवहं चिअ (भवि)।  
 परिवहं दुल वि [परिवहं दुल] गोलाकार (स  
 ६८)।  
 परिवहं अक्र [ परि + पत् ] पड़ना। वक्र.  
 परिवहं, परिवहं माण (पंच ५, ६२; ६७;  
 उप पृ ३)।  
 परिवहं अ वि [परिवहं अ] गिरा हुआ (सुपा  
 ३६०; वसु; यति २३; हम्मीर ३०; पंचा  
 ३, २४)।  
 परिवहं अक्र [ परि + वृध् ] बढ़ना।  
 परिवहं (महा; भवि)। भवि. परिवहं चिअ  
 (श्रीप)। क्र. परिवहं चिअ, परिवहं चिअ माण,  
 परिवहं चिअ माण (गा ३४६; राया १, १३;  
 महा; राया १, १०)।  
 परिवहं न [परिवहं न] परिवहं, बढ़ाव  
 (गउड; धर्मसं ८७५)।  
 परिवहं चिअ वी [परिवहं चिअ] ऊपर देखो (से  
 ५, २)।  
 परिवहं चिअ देखो परिअचिअ = परिवहं चिअ  
 (श्रीप १६ टि)।  
 परिवहं चिअ वि [परिवहं चिअ] बढ़ाया हुआ  
 (गा १४२; ४३१)।  
 परिवहं चिअ माण देखो परिवहं चिअ।  
 परिवहं सक [ परि + वर्ण्य ] वर्णन  
 करना। क्र. परिवहं चिअ (भग)।  
 परिवहं चिअ वि [परिवहं चिअ] जिसका वर्णन  
 किया गया हो वह (आत्म ७)।  
 परिवहं देखो परिअहं = परि + वृत्। परि-  
 चिअ (उत्त ३३, १)। परिवहं चिअ (गा ८०७)।  
 वक्र. परिवहं चिअ (गा २८३)।  
 परिवहं देखो परिअहं = परि + वतंय्। वक्र.  
 परिवहं चिअ, परिवहं चिअ (सं ६; सुप्र १, ५,  
 १, १५)। संक्र. परिवहं चिअ (काल)।  
 परिवहं देखो परिअहं = परिवहं 'विहियहं-  
 परिवहं' (कुप्र १३४)। २ संचरण, भ्रमण  
 (राज)।

परिवहं देखो परिअहं = परिवहं (काल)।  
 परिवहं चिअ देखो पडिअहं चिअ (पि २८६;  
 नाट—विक्र ८३)।  
 परिवहं चिअ (अप) वि [परिवहं चिअ] पकाया  
 गया, गरम किया गया; 'अंगु मलेवि सुप्रवा-  
 मोए निमज्जिअ परिवहं चिअ' (भवि)।  
 परिवहं चिअ वि [परिवहं चिअ] बदलानेवाला,  
 'ह्वपरिवहं चिअ विज्जा' (कुप्र १२६; महा)।  
 परिवहं चिअ देखो परिअहं चिअ (सुपा २६२)।  
 परिवहं थि न [परिवहं थि] वक्र, कपड़ा (भवि)।  
 परिवहं थिअ वि [परिवहं थिअ] आच्छादित,  
 'उजलनेवहं चिअ हत्य (ह्व) परिवहं थिअ' (श्रीप)।  
 देखो परिवहं चिअ।  
 परिवहं देखो परिवहं चिअ। वक्र. परिवहं चिअ  
 (राज)।  
 परिवहं देखो पडिअहं चिअ (उप १३६ टी)।  
 परिवहं अक्र [ परि + वत् ] तिर्यक् गिरना।  
 परिवहं चिअ (राय १०१)।  
 परिवहं सक [परि + वद्] निन्दा करना।  
 परिवहं चिअ, परिवहं चिअ (आचा)। वक्र-  
 परिवहं चिअ (पउह १, ३)।  
 परिवहं चिअ वि [परिवहं चिअ] परिकरित, वेष्टित  
 (सुपा १२५)।  
 परिवहं चिअ वि [परिवहं चिअ] वेष्टित (सुख  
 १०, १)।  
 परिवहं सक [ परि + वस् ] बसना, रहना।  
 परिवहं चिअ, परिवहं चिअ (भग; महा; पि ४१७)।  
 परिवहं चिअ न [परिवहं चिअ] आवास (राज)।  
 परिवहं चिअ वी [परिवहं चिअ] पशुपणा-पर्व  
 (निद्र १०)।  
 परिवहं चिअ वि [परिवहं चिअ] रहा हुआ, वास  
 किया हुआ (सण)।  
 परिवहं सक [ परि + वह् ] बहन करना,  
 डोना। २ अक्र. चालू रहना। परिवहं चिअ  
 (कण्)। परिवहं चिअ (गउड)। वक्र. परिवहं चिअ  
 (पिंड ३५६)।  
 परिवहं चिअ न [परिवहं चिअ] डोना (राज)।  
 परिवहं अक्र [परि + वा] सूखना। परिवहं चिअ  
 (गउड)।  
 परिवहं चिअ वि [परिवहं चिअ] निन्दा करनेवाला  
 (उव)।

परिवाइय वि [परिवाचित] पढा हुआ (पउम ३७, १५)।

परिवाइ ली [परिवाद्] कलंक-वार्ता, 'द्वयस्त ताव वत्ता जणपरिवाइ लहुं पत्ता' (पउम ६५, ४१)।

परिवाड सक [घटय्] १ घटना, संगत करना। २ रचना, निर्माण करना। परिवाडेइ (हे ४, ५०)।

परिवाडल देखो परिपाडल (गउड)।

परिवाडि ली [परिपाटि] १ पद्धति, रीति (विसे १०८५)। २ पंक्ति, श्रेणि (उत्त १, ३२)। ३ क्रम, परंपरा (संवे ६)। ४ सूत्रार्थ-वाचना, श्रव्यापन; 'धिरपरिवाडो गहियवको' (वमंवि ३६); 'एगयोहि वत्ति न करे परिवाडिदारामवि तासि' (कुलक ११)।

परिवाडिअ वि [वटित] रचित (कुमा)।

परिवाडी देखो परिवाडि; 'परिवाडीआगयं हवइ रज्ज' (पउम ३१, १०६; पात्र)।

परिवाद पुं [परिवाद] निन्दा, दोष-कीर्तन (वमंसं ६५४)।

परिवादिणी ली [परिवादिनी] बीणा-विशेष (राज)।

परिवाय देखो परिवाद (कप; औप; पउम ६५, ६०; खाया १, १; स ३२; आत्महि १५)।

परिवायग पुं [परिवाजक] संन्यासी, परिवायय } वावा, (सण; सुर १५, ५)।

परिवायणी ली [परिवादनी] सात तांतवाली बीणा (राय ४६)।

परिवार सक [परि + वारय्] १ वेष्टन करना। २ कुटुम्ब करना। वक्र. परिवारयंत (उत्त १३, १४)। संक्र. परिवारिया (सूत्र १, ३, २, २)।

परिवार पुं [परिवार] गृह-लोक, घर के मनुष्य (श्रीप; महा; कुमा)। २ न. म्यान (पात्र)।

परिवारण न [परिवारण] १ निराकरण (पएह १, १—पत्र १६)। २ आच्छादन, ढकना (दे १, ८६)।

परिवारिअ वि [दे] घटित, रचित (दे ६, ३०)।

परिवारिअ वि [परिवारित] १ परिवार-संपन्न। २ वेष्टित; 'जहा से उडुवई चंदे नक्खत्तपरिवारिए' (उत्त ११, २५; काल)।

परिवाल देखो परिवाल। परिवालइ (दे ६, ३५ टी)।

परिवाल सक [परि + पालय्] पालन करना। परिवालइ, परिवालेइ (भवि; महा)। वक्र. परिवालयंत (सुर १, १७१)। संक्र. परिवालिय (राज)।

परिवाल देखो परिवार = परिवार (खाया १, ८—पत्र १३१)।

परिवाविय वि [परिवापित] उखाड़ कर फिर से बोया हुआ (ठा ४, ४)।

परिवाविया ली [परिवापिता] बीजा-विशेष फिर से महाव्रतों का आरोपण (ठा ४, ४)।

परिवास पुं [दे] खेत में सोनेवाला पुरुष (दे ६, २६)।

परिवास न [परिवासस्] वक्र, कपड़ा; 'जंबोख्यगुज्जभंत्तरपासई नुनियत्यई मि भोण-परिवासई' (भवि)।

परिवासि वि [परिवासिन्] बसनेवाला (सुपा ४२)।

परिवासिय वि [परिवासित] सुवासित, सुगन्ध-युक्त; 'मयपरिमलपरिवासियदुई' (भवि)।

परिवाह सक [परि + वाहय्] १ बहन कराना। २ श्राद्धि खेलाना, श्राद्धि-क्रीड़ा करना; 'विबरीपसिक्खतुरयं परिवाहइ वाहियालीए' (महा)।

परिवाह पुं [परिवाह] जल का उछाल, बहाव;

'भरिउच्चरंतपसरिअपिअसंभरणपिसुणो वराइए। परिवाहो विअ दुक्खस्त वहइ णअणद्धिओ वाहो' (गा ३७७)।

परिवाह पुं [दे] दुर्विनय, अविनय (दे ६, २३)।

परिवाहण न [परिवाहन] श्राद्धि-खेलन; 'आसपरिवाहणनिमित्तं गएण' (स ८१; महा)।

परिविआल सक [परि + विश्] वेष्टन करना। परिविआलइ (आकृ ७५; वात्वा १४४)।

परिविचिद्ध अक [परिवि + स्था] १ उत्पन्न होना। २ रहना। परिविचिद्धइ (आचा १, ४, २, २; पि ४८३)।

परिविच्छय वि [परिविश्चत] सर्वथा छिन्न-हृत (सूत्र १, ३, १, २)।

परिविद्ध वि [परिविट्] परोसा हुआ (स १८६; सुपा ६२३)।

परिवित्तस अक [परिवि + त्तस्] डरना। परिवित्तसंति; परिवित्ततेजा (आचा १, ६, ५, ५)।

परिवित्ति ली [परिवृत्ति] परिवर्तन (सुपा ५७)।

परिविद्ध वि [परिविद्ध] जो विधा गया हो वह (सुपा २७०)।

परिविद्धंस सक [परिवि + ध्वंसय्] १ विनाश करना। २ परित्याग उपजाना। संक्र. परिविद्धंसित्ता (भंग)।

परिविद्धत्य वि [परिविध्वस्त] १ विनष्ट। २ परित्यापित (सूत्र २, ३, १)।

परिविष्फुरिय वि [परिविष्फुरित] स्फूर्ति-युक्त (सण)।

परिवियलिय वि [परिविगलित] हुआ हुआ, टपका हुआ (सण)।

परिवियलिर वि [परिविगलित्] भरनेवाला, छूनेवाला (सण)।

परिविरल वि [परिविरल] विशेष विरल (गउड; गा ३२६)।

परिविलसिर वि [परिविलसित्] विलासी (सण)।

परिविस सक [परि + विश्] वेष्टन करना। परिविसइ (आकृ ७५)।

परिविस सक [परि + विष्] परोसना, खिलाना। संक्र. परिविस्स (उत्त १४, ६)।

परिवियास पुं [परिविवाद] समन्तात् छेद (वमंवि १२६)।

परिविहुरिय वि [परिविधुरित] अति पीड़ित, 'मणिसंजुयदेविकरपरिविहुरिओ गयं मोत्तु' (सुर १५, १५)।

परिवीअ सक [परि + वीजय्] पंखा करना, हवा करना। परिवीएमि (स ६७)।

परिवीइअ वि [परिवीजित] जिसको हवा की गई हो वह (उप २११ टी)।

परिवीढ न [परिपीठ] आसन-विशेष (भवि) ।  
 परिवीळ सक [परि-पीडय्] दवाना ।  
 संक्र. परिवीळियाण (आचा २, १, ८, १) ।  
 परिवुड वि [परिवृत्त] परिकरित, वेष्टित  
 (आया १, १४; धर्मवि २४; श्रौष; महा) ।  
 परिवुत्थ वि [पर्युपित] १ रहा हुआ । २  
 न, वास, निवास (गउड ५४०) । देखो  
 परिवुसिअ ।  
 परिवुद देखो परिवुड (प्राक्र १२) ।  
 परिवुदि लो [परिवृत्ति] वेष्टन (प्राक्र १२) ।  
 परिवुसिअ वि [पर्युपित] स्थित, रहा हुआ;  
 'जे निक्खु अचेले परिवुसिए' (आचा १, ८,  
 ७, १; १, ६, २, २) । देखो परिवुत्थ ।  
 परिवुसिअ वि [पर्युपित] गत, गुजरा हुआ  
 (आचा २, ३, १, ३) ।  
 परिवूढ वि [परिवृद्ध] समर्थ (उत्त ७, २) ।  
 परिवूढ वि [परिवृद्ध] स्थूल (भास ८६;  
 उत्त ७, ६) ।  
 परिवूढ वि [परिवृद्ध] १ बलवान, बलिष्ठ  
 (दस ७, २३) । २ मांसल, पुष्ट (आचा २,  
 ४, २, ३) ।  
 परिवूढ वि [परिव्यूढ] वहन किया हुआ,  
 बोया हुआ; 'न चइत्तामि अहं पुण चिरपरि-  
 वूढं इमं लोहं' (धर्मवि ७) ।  
 परिवूहण देखो परिवूहण (राज) ।  
 परिवेड सक [परि + वेष्ट्] वेष्टना,  
 लपटना । परिवेडइ (भवि) । संक्र. परिवेडिय  
 (निक्ख १) ।  
 परिवेड पुं [परिवेष्ट्] वेष्टन, घेरा; 'जा जग्गइ  
 तो पिच्छइ सेवापरसुहइपरिवेड' (सिदि  
 ६३८) ।  
 परिवेडाविय वि [परिवेष्टित] वेष्टित कराया  
 हुआ (पि ३०४) ।  
 परिवेडिय वि [परिवेष्टित] वेष्टा हुआ, घेरा  
 हुआ, लपेटा हुआ (उप ७६८ टी; षण २०;  
 पि ३०४) ।  
 परिवेय अक [परि + वेप्] कांपना,  
 'कायरपरिण परिवेयइ' (भवि) ।  
 परिवेडि वि [परिवेडित्] कम्पन-शील  
 (गउड) ।  
 परिवेय अक [परि + वेप्] कांपना । वक्र.  
 परिवेयमाण (आचा) ।

परिवेस सक [परि + विप्] परोसना ।  
 परिवेसइ (सुपा ३८६) । कर्म. परिवेसिज्जइ  
 (आया १, ८) । वक्र. परिवेसंत, परि-  
 वेसयंत (पिड १२०; सुपा ११; आया  
 १, ७) ।  
 परिवेस पुं [परिवेश, 'घ' १ वेष्टन, (गउड) ।  
 २ मंडल, मेघादि से सूर्य-चन्द्र का वेष्टनाकार  
 मंडल; 'परिवेतो अंवेरे फइसवएणो' (पउम  
 ६६, ४७; स ३१२ टी; गउड) ।  
 परिवेसण न [परिवेपण] परोसना (स  
 १८७; पिड ११६) ।  
 परिवेसणा लो [परिवेपणा] ऊपर देखो  
 (पिड ४४५) ।  
 परिवेसि [परिवेशिन्] समीप में रहने-  
 वाला (गउड) ।  
 परिव्वअ सक [परि + व्रज्] १ समंताद्  
 गमन करना । २ दीक्षा लेना । परिव्वए;  
 परिव्वएज्जासि (सुप्र १, १, ४, ३; पि  
 ४६०) ।  
 परिव्वअ वि [परिवृत्त] परिवेष्टित, 'तारा-  
 परिव्वयो विव सरवपुण्णिणमाचंदो' (वसु) ।  
 परिव्वअ वि [परिव्यय] विशेष व्यय  
 (नाट—मृच्छ ७) ।  
 परिव्वय पुं [परिव्यय] खर्चा, खर्च करने  
 का धन (दस ३, १ टी) ।  
 परिव्वह सक [परि + वह्] वहन करना,  
 धारण करना । परिव्वहइ (संवेध २२) ।  
 परिव्वाइया लो [परिव्राजिका] संन्यासिनी  
 (आया १, ८; महा) ।  
 परिव्वज (शौ) पुं [परि + व्राज्] संन्यासी  
 (चार ४६) ।  
 परिव्वजअ (शौ) पुं [परिव्राजक] संन्यासी  
 (पि २८७; नाट—मृच्छ ८५) ।  
 परिव्वजिआ (शौ) देखो परिव्वाइया  
 (मा २०) ।  
 परिव्वाय देखो परिव्वज (सुप्रनि ११२;  
 श्रौष) ।  
 परिव्वायग पुं [परिव्राजक] संन्यासी,  
 परिव्वायय साधु (भग) ।  
 परिव्वायय वि [परिव्राजक] परिव्वजक-  
 सम्बन्धी (कप्य) ।  
 परिस देखो फरिस = स्पशं (गउड; चार ४२) ।

परिसंक अक [परि + शङ्क्] भय करना,  
 डरना । वक्र. परिसंकमाण (सुप्र १, १०;  
 २०) ।  
 परिसंकिय वि [परिशङ्कित] भोत (पएह  
 १, ३) ।  
 परिसंखा सक [परिसं + ख्या] १ अच्छी  
 तरह जानना । २ गिनती करना । संक्र.  
 परिसंखाय (दस ७, १) ।  
 परिसंखा लो [परिसंख्या] संख्या, गिनती  
 (पउम २, ४६; जीवस ४०; पव—गाया  
 १३; तंडु ४; सण) ।  
 परिसंग पुं [परिपङ्ग] संग, सोहवत (हम्मोर  
 १६) ।  
 परिसंग पुं [परिपङ्ग] आलिङ्गन (पउम  
 २१, ५२) ।  
 परिसंगय वि [परिसंगत] युक्त, सहित  
 (धर्मवि १३) ।  
 परिसंठव सक [परिसं + स्थापय्]  
 संस्थापन करना । परिसंठवहु (अप) (पिग) ।  
 वक्र. परिसंठवित (उप ४३) ।  
 परिसंठविय वि [परिसंस्थापित] संस्थापित  
 (तंडु ३८) ।  
 परिसंठिय वि [परिसंस्थित] स्थित, रहा  
 हुआ (महा) ।  
 परिसंत वि [परिश्रान्त] थका हुआ (महा) ।  
 परिसंथविय वि [परिसंस्थापित] आधासित  
 (स ५६६) ।  
 परिसक सक [परि + च्वक्] चलना,  
 गमन करना, इधर-उधर घूमना । परिसकइ  
 (उप ६ टी; कुप्र १७५) । वक्र. परिसकंत,  
 परिसकमाण (काप्र ६१७; स ४१; १३६) ।  
 संक्र. परिसकिकुण (सुपा ३१३) । क.  
 परिसकियव्य (स १६२) ।  
 परिसकण न [परिच्वकण] परिभ्रमण (से  
 ५, ५५; १३, ५६; सुपा २०१) ।  
 परिसकिकिअ वि [परिच्वकित] १ गत  
 (भवि) । २ न. परिक्रमण, परिभ्रमण (गा  
 ६०६) ।  
 परिसकिकि वि [परिच्वकित] गमन करने-  
 वाला (आया १, १; पि ५६६) ।  
 परिसञ्जिअ (अप) वि [परिच्वक्त] आनिगित  
 (सण) ।



परिसड अक [ परि + शट् ] उपयुक्त होना ।

परिसडइ (आचा २, १, ६, ६) ।

परिसडिय वि [ परिशटित ] सडा हुआ, विनष्ट (राया १, २; औप) ।

परिसण्ह वि [ परिश्रद्धण ] सूक्ष्म, छोटा (से १, १) ।

परिसन्न वि [ परिपण्ण ] जो हैरान हुआ हो, पीड़ित (पउम १७, ३०) ।

परिसप्प सक [ परि + सप् ] चलना ।  
परिसप्पेइ (नाट—विक्र ६१) ।

परिसप्पि वि [ परिसर्पिन् ] १ चलनेवाला (कप्प) । २ पुंस्त्री. हाथ और पैर से चलने-वाला जन्तु—नकुल, सर्प आदि प्राणि-गण । स्त्री. ०पी (जीव २) ।

परिसम देखो परिस्सम (महा) ।

परिसमत्त वि [ परिसमात्त ] सम्पूर्ण, जो पूरा हुआ हो वह (से १५, ६५; सुर १५, २५०) ।

परिसमत्ति स्त्री [ परिसमात्ति ] समाप्ति' पूर्णता (उप ३५७; स ५२) ।

परिसमापिय वि [ परिसमापित ] जो समाप्त किया गया हो, पूरा किया हुआ (वित्ते ३६०२) ।

परिसमाय सक [ परिसम् + आप् ] पूर्ण करना । संक्र. परिसमाविअ (अभि ११६) ।

परिसर पुं [ परिसर ] नगर आदि के समीप का स्थान (औप; सुपा १३०; मोह ७६) ।

परिसडिय वि [ परिशाल्यित ] शल्य-युक्त (सण) ।

परिसव सक [ परि + स्यु ] करना, टपकना ।  
वक्र. परिसवंत (संदु ३६; ४१) ।

परिसह पुं [ परिपह ] देखो परीसह (भग) ।

परिसा स्त्री [ परिपट् ] १ सभा, पर्यट (पाद्य; औप; उवा; विपा १, १) । २ परिवार (ज ३, २—पत्र १२७) ।

परिसाइ देखो परिस्साइ (राज) ।

परिसाइयाण देखो परिसाव ।

परिसाइ सक [ परि + शाटय् ] १ त्याग करना । २ अलग करना । परिसाइइ (कप्प; भग) । संक्र. परिसाइइत्ता (भग) ।

परिसाइ सक [ परि + शाटय् ] १ इवर-उवर फेंकना । २ भरना । ३ रखना; 'परिसाइज्ज भोग्गणं' (दस ५, १, २८) । परिसाइत्ति; भूका. परिसाइत्तु; भवि. परिसाइत्संति (आचा २, १०, २) ।

परिसाइणा स्त्री [ परिशाटना ] वपन, बोना (वव १) ।

परिसाइणा स्त्री [ परिशाटना ] पृथक्करण (सूअनि ७; २०) ।

परिसाइ वि [ परिशाटिन् ] परिशाटन-युक्त (औप ३१) ।

परिसाइ वि [ परिशाटि ] परिशाटन, पृथक्करण (पिड ५५२) ।

परिसाइयि स्त्री [ परिशातित ] निराया हुआ (दस ५, १, ६६) ।

परिसाम अक [ शम् ] शान्त होना । परि-सामइ (हे ४, १६७) ।

परिसाम वि [ परिश्याम ] नीचे देखो (गडड) ।

परिसामल वि [ परिश्यामल ] कृप्य, काला (गडड) ।

परिसामिअ वि [ शान्त ] शान्त, शम-युक्त (कुमा) ।

परिसामिअ वि [ परिश्यामित ] कृप्य किया हुआ (राया १, १) ।

परिसाव सक [ परि + स्वावय् ] १ निचोड़ना । २ गालना । संक्र. परिसावियाण (आचा २, १, ८, १) ।

परिसावि देखो परिस्सावि (वृह १) ।

परिसाहिय वि [ परिकथित ] प्रतिपादित, उक्त (सण) ।

परिसिच सक [ परि + सिच् ] संचिना ।  
परिसिचिजा (उत्त २, ६) । वक्र. परिसिच-माण (राया १, १) । कवक्र. परिसिचमाण (कप्प; पि ५४२) ।

परिसिट्ठि वि [ परिशिट्ठ ] अवशिष्ट, बाकी वचा हुआ (आचा १, २, ३, ५) ।

परिसिट्ठिल वि [ परिशिट्ठिल ] विशेष शिथिल, ढीला (गडड) ।

परिसित्त वि [ परिपिक् ] १ सींचा हुआ (गा १८५; सण) । २ न. परिपेक, सेचन (पण्ह १, १) ।

परिसिद्ध वि [ पर्यट्टन् ] परिपट्ट वाला (वृह ३) ।

परिसीळ सक [ परि + शील्य् ] अन्यास करना, आदत डालना । संक्र. परिसीळिवि (अप) (सण) ।

परिसीळण न [ परिशीलन ] अन्यास, आदत (रंभा; सण) ।

परिसीळिय वि [ परिशीलित ] अन्यत्त (सण) ।

परिसीसग देखो पडिसीसअ (राज) ।

परिसुक्क वि [ परिशुक्क ] सूख सूखा हुआ (विपा १, २; गडड) ।

परिसुण्ण वि [ परिशुण्ण ] खाली, रिक्त, सुन्न (से ११, ८७) ।

परिसुत्त वि [ परिसुत्त ] संत्रया सोया हुआ (नाट—उत्तर २३) ।

परिसुद्ध वि [ परिशुद्ध ] निर्मल, निर्दोष (उव; गडड) ।

परिसुद्धि स्त्री [ परिशुद्धि ] विशुद्धि, निर्मलता (गडड; द ६५) ।

परिसुन्न देखो परिसुण्ण (वित्ते २८५०; सण) ।

परिसुस (अप) सक [ परि + शोपय् ] सुवाना । संक्र. परिसुसिवि (अप) (सण) ।

परिसुअणा स्त्री [ परिसूचना ] सूचना (सुपा ३०) ।

परिसेय पुं [ परिपेक ] सेचन (औप ३७७) ।

परिसेस पुं [ परिशेय ] १ बाकी वचा हुआ; अवशिष्ट (से १०, २३; पउम ३५, ४०; ना ८८; कम्म ६, ६०) । २ अनुमान-प्रमाण का एक नेद, परिशेयानुमान (वर्मसं ६८; ६६) ।

परिसेसिअ वि [ परिशेपित ] १ बाकी वचा हुआ (भग) । २ परिच्छिन्न, निर्णीत;

उज्झसि उज्झसु कट्टसि

कट्टसु ग्रह फुडसि हिअत्त ता फुडसु ।  
तहवि परित्तेसियो चिअ

सो हु मए गल्लिअसदभावो' (गा ४०६) ।

परिसेह पुं [ परिपेध ] प्रतिपेध, निवारण; 'पावट्टाणाय जो उ परित्तेहो, भाएण्णयणा-ईणं जो य विही, एस धम्मकसो' (काल) ।

परिसोण वि [परिशोण] लाल रंग का (गड्ड)।

परिसोषण न [परिशोषण] सुखाना (गा ६२८)।

परिसोसिअ वि [परिशोषित] सुखाया हुआ (सण)।

परिसोह सक [परि + शोधय्] शुद्ध करना। क्वक. परिसोहिज्जंत (सण)।

परिस्सअ सक [परि + स्वञ्ज्] आलिंगन करना। परिस्सअदि (शौ) (पि ३१५)। संक. परिस्सइअ (पि ३१५; नाट—शकु ७२)।

परिस्संत देखो परिसंत (णाय १, १; स्वप्न ४०; अग्नि २१०)।

परिस्सज्ज (शौ) देखो परिस्सअ। परिस्सजह (उत्तर १७६)। वक. परिस्सजंत (अग्नि १३३)। संक. परिस्सजिअ (अग्नि १२५)।

परिस्सम पुं [परिश्रम] मेहनत (धर्मसं ७८८, स्वप्न १०; अग्नि ३६)।

परिस्सम्म अक [परि + श्रम्] १ मेहनत करना। २ विद्याम लेना। परिस्सम्मइ (विसे ११६७; धर्मसं ७८६)।

परिस्सव सक [परि + स्तु] चुना, करना, टपकना। वक. परिस्सवमाण (विपा १, १)।

परिस्सव पुं [परिस्सव] आनव, कर्म-वच्य का कारण (आचा)।

परिस्सह देखो परीसह (आचा)।

परिस्साइ देखो परिस्सावि = परिस्साविन् (ठा ४, ४—पत्र २७६)।

परिस्साव देखो परिसाव। संक. परिस्सावि-याण (पि ५६२)।

परिस्सावि वि [परिस्साविन्] १ कर्म-वच्य करनेवाला (भा २५, ६)। २ चुनेवाला, टपकनेवाला। ३ शुद्ध बात को प्रकट कर देनेवाला (गच्छ १, २२; पंचा १५, १४)।

परिस्सावि वि [परिश्राविन्] सुनानेवाला (द्रव्य ४६)।

परिह सक [परि + धा] पहिखाना, पहनना। परिहइ (धर्मवि १५०; भवि); 'सर्वगोणेवि परिहए जं वू रयणमयालंकारे' (धर्मवि १४६)।

परिह पुं [दे] रोप, गुस्ता (दे ६, ७)।

परिह पुं [परिव] अगला, आगल (अणु)।

परिहच्छ वि [दे] १ पडु, दस, निपुण (दे ६, ७६; भवि)। २ पुं. मल्लु, रोप, गुस्ता (दे ६, ७१)। देखो परिहत्थ।

परिहच्छ देखो पडिहच्छ (ओप)।

परिहट्ट सक [मृद्, परि + घट्टय्] मर्दन करना। चूर करना, कचरना, कुचलना। परिहट्टइ (हे ४, १२६; नाट—साहित्य ११६)।

परिहट्ट सक [वि + लुल] १ मारना, मार कर मिरा देना। २ सामना करना। ३ लुट लेना। ४ अक. जमीन पर लोटना। परिहट्टइ (प्राक ७३)।

परिहट्टण न [परिघट्टण] १ अग्निवात, आघात (से १०, ४१)। २ घर्षण, विसना (से ८, ४३)।

परिहट्टि द्वी [दे] आकृष्टि, आकर्षण, खींचाव (दे ६, २१)।

परिहट्टिअ वि [मृदित] जितका मर्दन किया गया हो वह, 'परिहट्टिओ माणो' (कुमा; पात्र)।

परिहण न [दे. परिधान] वस्त्र, कपड़ा (दे ६, २१; पात्र; हे ४, ३४१; सुर १, २५; भवि)।

परिहत्थ पुं [दे] १ जलजन्तु-विशेष; 'परिहत्थमच्छपुंछेद्वअच्छोडणपोच्छंततसलिलोह' (सुर १३, ४१)। 'पोकवरियो.....परिहत्थमंतमच्छद्वप्यअणेगसउणगणमिहुणवि-यरियसदुल्लइयमहुरसरनाइया पासाईया' (णाय १, १३—पत्र १७६)। २ वि. दस, निपुण; 'अन्ने रणपरिहत्था सूर' (पउम ६१, १; पएह १, ३—पत्र ५५; पात्र; आव ४)। ३ परिपूर्ण (ओप; कण)। देखो परिहच्छ, पडिहत्थ।

परिहर सक [परि + धृ] धारण करना। संक. परिहरिअ (उत्तर १२, ६)।

परिहर सक [परि + हृ] १ त्याग करना, छोड़ना। २ करना। ३ परिभोग करना, आसेवन करना। परिहरइ (हे ४, २५६; उव; महा)। परिहरंति (भा १५—पत्र ६६७)। वक. परिहरंत, परिहरमाण (गा १६६; राज)। संक. परिहरिअ (पिग)।

हेक. परिहरित्तए, परिहरिउं (ठा ५, ३; काप्र ४०८)। क. परिहरणीअ, परिहरि-अञ्च (पि ५७१; गा २२७; श्रोप ५६; सुर १४, ८३; सुपा ३६६; ५८८; पएह २, ५)। परिहरण न [परिधरण] धारण करना (वव १)।

परिहरण न [परिहरण] १ परित्याग, वजन (महा)। २ आसेवन, परिभोग (ठा १०)। परिहरणा द्वी [परिहरण] ऊपर देखो (पिड १६७); 'परिहरणा होइ परिभोगो' (ठा ५, ३ टी—पत्र ३३८)।

परिहरिअ वि [परिहृत] परित्यक्त, वंजित (महा; सण; भवि)।

परिहरिअ देखो परिहर = परि + धृ, हृ।

परिहरिअ वि [परिधृत] धारण किया हुआ, 'परिहरिअकणअकुंडलगंडयलमणहरेमु सव-णेमु। अणुअ ! समअवसेणं परिहिज्जइ तालवेटजुअं ॥' (गा ३६८ अ)।

परिहलाविअ पुं [दे] जल-निर्गम, मोरी, पनाला (दे ६, २६)।

परिहव सक [परि + भू] पराभव करना। वक. परिहवंत (वव १)। क. परिहवियव्व (उप १०३६)।

परिहव पुं [परिभव] पराभव, तिरस्कार (से १३, ४६; गा ३६६; हे ३, १८०)।

परिहवण न [परिभवण] ऊपर देखो (स ५७२)।

परिहविय वि [परिभूत] पराजित, तिरस्कुत (उप पृ १८०)।

परिहस सक [परि + हस्] उपहास करना, हँसी करना। परिहसइ (नाट)। कर्म. परिह-सोअदि (शौ) (नाट—शकु २)।

परिहस्स वि [परिहस्व] अत्यन्त लघु (स ८)।

परिहा अक [परि + हा] हीन होना, कम होना। परिहाइ, परिहायइ (उव; सुखं २, ३०)। भवि. परिहाइसदि (शौ) (अग्नि ६)। क्वक. परिहायंत; परिहायमाण (सुर १०, ६; १२, १४; णाय १, १३; श्रोप; ठा ३, ३), परिहीअमाण (पि ५४५)।

परिहा सक [परि + धा] पहिखाना। भवि. परिहिसामि (आचा १, ६, ३, १)। संक.

परिहिऊण, परिहित्ता (कुप्र ७२; नूत्र १, ४, १, २५)। कृ. परिहियञ्च (स ३१५)।  
 परिहा छी [परिखा] खाई (उर ४, २; पात्र)।  
 परिहाइअ वि [दे] परिकीण (पड)।  
 परिहाइवि देखो परिहाव = परि + धापय्।  
 परिहाण न [परिधान] १. वक्र, कपड़ा, (कुप्र ५६; सुपा ५५)। २ वि. पहिरनेवाला, पहननेवाला; 'महिविलया सलिलवत्यपरिहाणो' (पउम ११, ११६)।  
 परिहाणि छी [परिहाणि] ह्रास, नुकसान, क्षति (सम ६७; उप ३२६; जी ३३; प्रासू ३६)।  
 परिहाय वि [दे] क्षीण, दुर्बल (दे ६, २५; पात्र)।  
 परिहायंत } देखो परिहा = परि + हा।  
 परिहायमाण }  
 परिहार पुं [परिहार] करण, कृति (वव १)।  
 परिहार पुं [परिहार] १. परित्याग, वज्रं (गउड)। २. परिभोग, आनेवन; 'एवं खलु गोसाला ! वणस्सइकाइयाओ पउट्टपरिहारं परिहरंति' (भंग १५)। ३. परिहार-विशुद्धि नामक संयम-विशेष (कम्म ४, १२; २१)। ४. विषय (वव १)। ५. तप-विशेष (ठा ५, २; वव १)। 'विशुद्धिअ, विसुद्धीअ न [विशुद्धिक] चारिअ-विशेष, संयम-विशेष (ठा ५, २; नव २६)।  
 परिहारि वि [परिहारिन्] परिहार करनेवाला (वृह ४)।  
 परिहारिअ वि [पारिहारिक] आचारवान् मुनि, उद्युक्त विहारो जैन साधु (आचा २, १, १, ४)।  
 परिहारिणी छी [दे] देर से व्याई हुई भैंस (दे ६, ३१)।  
 परिहारिय वि [पारिहारिक] १. परित्याग के योग्य (वृह २)। २. परिहार नामक तप का पालक (पव ६६)।  
 परिहाल पुं [दे] जल-निर्गम, मोरी (दे ६; २६)।  
 परिहाव सक [परि + धापय्] पहिराना। संकृ. परिहाइवि (अप) (भवि)।

परिहाव सक [परि + धापय्] ह्रास करना, कम करना, हीन करना। वक्र. परिहावेमाण (खाया १, १—पत्र २८)।  
 परिहाविअ वि [परिहापित] हीन-किया हुआ (वव ४)।  
 परिहाविअ वि [परिधापित] पहिराना हुआ (महा; गुर १०, १७; स ५२६; कुप्र ६)।  
 परिहास पुं [परिहास] उजहास, हँसी (गा ७७१; पात्र)।  
 परिहासणा छी [परिभाषणा] उचालम्न (आव १)।  
 परिहि पुंछी [परिधि] १. परिवेष, 'ससिचिंवं व परिहिणा रुद्धं सिन्नेण तत्त रायगिहं' (पव २५५)। २. परिणाह, विस्तार (राज)।  
 परिहिअ वि [परिहित] पहिरा हुआ (उवा, भग, कण; औप; पात्र; गुर २, ८)।  
 परिहिऊण देखो परिहा = परि + धा।  
 परिहिंड सक [परि + हिण्ड] परिभ्रमण करना। परिहिंडण (ठा ४, १ टी—पत्र १६२)। वक्र. परिहिंडंत, परिहिंडमाण (पउम ८, १६८; ६०, ५; १५५; औप)।  
 परिहिंडिय वि [परिहिण्डित] परिभ्रान्त, भटका हुआ (पउम ६, १३१)।  
 परिहित्ता } देखो परिहा = + धा।  
 परिहियञ्च }  
 परिहीअमाण देखो परिहा = परि + हा।  
 परिहीण वि [परिहीण] १. कम, न्यून (औप)। २. क्षीण, विनष्ट (सुज्ज १)। ३. रहित, वीजित (उव)। ४. न. ह्रास, अपचय (राय)।  
 परिहुत्त वि [परिभुक्त] जिसका भोग किया गया हो वह (से १, ६४; दे ४, ३६)।  
 परिहूअ वि [परिभूत] पराजित, अभिभूत (गा १३४; पउम ३, ६, से २८)।  
 परिहेरण न [दे-परिहार्यक] आभूषण-विशेष (औप)।  
 परिहो सक [परि + भू] पराभव करना। परिहोइ (भवि)।  
 परिहोअ देखो परिभोग (गउड)।  
 परिहूलस (अप) अक [परि + हूलस्] कम होना। परिहूसइ (पिंग)।  
 परी सक [परि + इ] जाना, गमन करना। परिति (पि ४६३)। वक्र. परित (पि ४६३)।

परी सक [क्षिप्] फेंकना। परीइ (हे ४, १४३)। परीसि (कुमा)।  
 परी सक [भूम] भ्रमण करना, घूमना। परीइ (हे ४, १६१)। परंति (पएह १, ३—पत्र ४६)।  
 परीवाय पुं [परिघात] निर्वात, दिनाश (पव ६४)।  
 परीणम देखो परिणम = परि + णम; 'संसग्गओ परणवणागुणाओ लोयुत्तरत्तेण परीणमंति' (उपमं ३५)।  
 परीभोग देखो परिभोग (सुपा ४६७; श्रावक २८४; पंचा ८, ६)।  
 परीमाण देखो परिमाण (जीवस १२३; १३२, पव १५६)।  
 परीय देखो परिन्त (राज)।  
 परीयइ पुं [दे. परिवर्त] वेष्टन, 'तिपरीयल्लमणिस्सद्धं रयहरणं धारण एणं' (घोष ७०६)।  
 परीरंभ पुं [परीरंभ] आलिंगन (कुमा)।  
 परीवज्ज वि [परिवर्ज्य] वज्रनीय (कम्म ६, ६ टी)।  
 परीवाय देखो परिवाय = परिवाद (पउम १०१, ३; पव २३७)।  
 परीवार देखो परिवार = परिवार (कुमा; चैड्य ४८)।  
 परीसण न [परिवेषण] परोसना (दे २, १४)।  
 परीसम देखो परिस्सम (भवि)।  
 परीसह पुं [परीसह] भूत आदि से होनेवाली पीड़ा (आचा; औप; उव)।  
 परुइय वि [परुदित] जो रोने लगा हो वह (स ७५५)।  
 परुक्ख देखो परोक्ख (विसे १४०३ टी; सुपा १३३; आ १; कुप्र २५)।  
 परुण्ण } देखो परुइय (से १, ३५; १०, ६४; गा ३५४, ८३८; महा; स २०४)।  
 परुत्त }  
 परुत्पर देखो परोत्पर (कुप्र ५)।  
 परुत्भासिद (शौ) वि [प्रोद्भासित] प्रकाशित (प्रयो २०)।  
 परुस वि [परुप] कठोर (गा ३४४)।  
 परुड वि [परुड] १. उत्पन्न (धमंवि १२१)। २. बढ़ा हुआ (औप; पि ४०२)।

परुव सक [प्र + रूपय] प्रतिपादन करना ।  
पल्वेइ, परुवेति (श्रीप; कप्प; भग) । संकृ.  
परुवइत्ता (ठा ३, १) ।

परुवग वि [प्ररूपक] प्रतिपादक (उव; कुप्र  
१८१) ।

परुवण न [प्ररूपण] प्रतिपादन (अणु) ।  
परुवणा वी [प्ररूपणा] ऊपर देखो (आच्  
१) ।

परुविअ वि [प्ररूपित] १ प्रतिपादित,  
निष्पित (परह २, १) । २ प्रकाशित;  
'उत्तमकंचणरयणपरुविअमानुरभूसणमासुरि -  
अंगा' (अजि २३) ।

परेअ पुं [दे] पिशाच (दे ६, १२; पाअ;  
पइ) ।

परेण अ [परेण] वाद, अनन्तर (महा) ।  
परेयन्मण देखो परिक्रमण (कप्प) ।  
परेवय न [दे] पाद-पतन (दे ६, १६) ।

परेव्व वि [परेव्वस्तन] परसों का, परसों  
हानेवाला (पिड २४१) ।

परो अ [पर] उच्छ्रुट, 'परोसंतेहि तचेहि'  
(उवा) ।

परोइय देखो परुइय (उप ७६८ टी) ।  
परोक्ख न [परोक्ख] १ प्रत्यक्ष-भिन्न प्रमाण,  
'पच्चत्तपरोक्खाई दुन्नेव जसो पमाणाई' (सुर  
१२, ६०; रांदि) । २ वि. परोक्ख-प्रमाण का  
विषय, अप्रत्यक्ष (सुपा ६४७; हे ४, ४१८) ।  
३ न. पीछे, आंखों की ओट में; 'मम परोक्खे  
कि तए अणुमूयं?' (महा) ।

परोट्ट देखो पलोट्ट = पर्यस्त (पइ) ।  
परोप्पर } वि [परस्पर] आपस में (हे १,  
परोप्पर } ६२; कुमा; कप्प; पइ) ।

परोवआर पुं [परोपकार] दूसरे की मलाई  
(नाट—मुच्छ १६८) ।

परोवयारि वि [परोपकारिन्] दूसरे की  
मलाई करनेवाला (पउम ५०, १) ।

परोवर देखो परोप्पर (प्राक् २६; ३०) ।

परोविअ देखो परुइय (उप ७२८ टी; त  
४८०) ।

परोह अक [प्र + रुह] १ उल्लस होना ।  
२ बढ़ना । परोहदि (श्री) (नाट) ।

परोह पुं [प्ररोह] १ उल्लसि (कुमा) । २  
बुद्धि । ३. अंकुर, बीजोद्भेद (हे १, ४४);

'पुत्रलयाण परोहे रेहइ आवालपतिव्व' (वर्मावि  
१६८) ।

परोहड न [दे] घर का पिछला आंगन, घर  
के पीछे का भाग (श्रीघ ४१७; पाअ; गा  
६८५ अ; वज्जा १०६; १०८) ।

पल अक [पल्] १ जीना । २ खाना । पलइ  
(पइ) । देखो वल = वल् ।

पल (अप) अक [पन्] पड़ना, गिरना ।  
पलइ (पिंग) । वक्र. पलंत (पिंग) ।  
पल (अप) सक [प्र + कटय्] प्रकट करना ।  
पल (पिंग) ।

पल अक [परा + अय्] भागना;  
'चोराण कामुयाण य  
पामरपहियाण कुक्कुडो रडइ ।  
रे पलह रमह वाहयह,  
वहह तरुइज्जए रयणी' (वज्जा  
१३४) ।

पल न [दे] स्वेद, पसीना (दे ६, १) ।  
पल न [पल] १ एक बहुत छोटी तोल, चार  
तोल (ठा ३, १; सुपा ४३७; वज्जा ६८;  
कुप्र ४१६) । २ मांस (कुप्र १८६) ।

पलंघ सक [प्र + लङ्घ्] अतिक्रमण  
करना । पलंघजा (श्रीप) ।

पलंघण न [प्रलङ्घन] उल्लंघन (श्रीप) ।  
पलंड पुं [पलण्ड] राज, चूना पोतने का  
काम करनेवाला कारीगर; 'पलण्डि पलंडो'  
(प्राक् ३०) ।

पलंडु पुं [पलाण्डु] व्याज (उत्त ३६,  
६८) ।

पलंअ अक [प्र + लम्ब] लटकना । पलंअ  
(पि ४५७) । वक्र. पलंअमाण (श्रीप; महा) ।

पलंअ वि [प्रलम्ब] १ लटकनेवाला, लटकता  
(परह १, ४; राय) । २ लम्बा, दीर्घ (से  
१२, ५६; कुमा) । ३ पुं. ग्रह-विशेष, एक  
महाग्रह (ठा २, ३) । ४ मुहूर्त्त-विशेष, अहो-  
रात्र का आठवां मुहूर्त्त (सम ५१) । ५ पुं.  
आभरण-विशेष (श्रीप) । ६ एक तरह का  
धान का कोठा (वृह २) । ७ मूल (कस;  
वृह १) । ८ रुचक पर्वत का एक शिखर  
(ठा ८—पत्र ४३६) । ९ पुं. फल (वृह  
१; ठा ४, १—पत्र १८५) । १० देव-विमान-  
विशेष (सम ३८) ।

पलंअ वि [प्रलम्ब] १ लटकनेवाला, लटकता  
(परह १, ४; राय) । २ लम्बा, दीर्घ (से  
१२, ५६; कुमा) । ३ पुं. ग्रह-विशेष, एक  
महाग्रह (ठा २, ३) । ४ मुहूर्त्त-विशेष, अहो-  
रात्र का आठवां मुहूर्त्त (सम ५१) । ५ पुं.  
आभरण-विशेष (श्रीप) । ६ एक तरह का  
धान का कोठा (वृह २) । ७ मूल (कस;  
वृह १) । ८ रुचक पर्वत का एक शिखर  
(ठा ८—पत्र ४३६) । ९ पुं. फल (वृह  
१; ठा ४, १—पत्र १८५) । १० देव-विमान-  
विशेष (सम ३८) ।

पलंअ वि [प्रलम्ब] १ लटकनेवाला, लटकता  
(परह १, ४; राय) । २ लम्बा, दीर्घ (से  
१२, ५६; कुमा) । ३ पुं. ग्रह-विशेष, एक  
महाग्रह (ठा २, ३) । ४ मुहूर्त्त-विशेष, अहो-  
रात्र का आठवां मुहूर्त्त (सम ५१) । ५ पुं.  
आभरण-विशेष (श्रीप) । ६ एक तरह का  
धान का कोठा (वृह २) । ७ मूल (कस;  
वृह १) । ८ रुचक पर्वत का एक शिखर  
(ठा ८—पत्र ४३६) । ९ पुं. फल (वृह  
१; ठा ४, १—पत्र १८५) । १० देव-विमान-  
विशेष (सम ३८) ।

पलंअ वि [प्रलम्ब] १ लटकनेवाला, लटकता  
(परह १, ४; राय) । २ लम्बा, दीर्घ (से  
१२, ५६; कुमा) । ३ पुं. ग्रह-विशेष, एक  
महाग्रह (ठा २, ३) । ४ मुहूर्त्त-विशेष, अहो-  
रात्र का आठवां मुहूर्त्त (सम ५१) । ५ पुं.  
आभरण-विशेष (श्रीप) । ६ एक तरह का  
धान का कोठा (वृह २) । ७ मूल (कस;  
वृह १) । ८ रुचक पर्वत का एक शिखर  
(ठा ८—पत्र ४३६) । ९ पुं. फल (वृह  
१; ठा ४, १—पत्र १८५) । १० देव-विमान-  
विशेष (सम ३८) ।

पलंअ वि [प्रलम्ब] १ लटकनेवाला, लटकता  
(परह १, ४; राय) । २ लम्बा, दीर्घ (से  
१२, ५६; कुमा) । ३ पुं. ग्रह-विशेष, एक  
महाग्रह (ठा २, ३) । ४ मुहूर्त्त-विशेष, अहो-  
रात्र का आठवां मुहूर्त्त (सम ५१) । ५ पुं.  
आभरण-विशेष (श्रीप) । ६ एक तरह का  
धान का कोठा (वृह २) । ७ मूल (कस;  
वृह १) । ८ रुचक पर्वत का एक शिखर  
(ठा ८—पत्र ४३६) । ९ पुं. फल (वृह  
१; ठा ४, १—पत्र १८५) । १० देव-विमान-  
विशेष (सम ३८) ।

पलंअ वि [प्रलम्बित] लटका हुआ (कप्प;  
भवि; स्वप्न १०) ।

पलंअ वि [प्रलम्बित] लटकनेवाला, लट-  
कता (सुपा ११; सुर १, २४८) ।

पलक्क वि [दे] लम्पट, 'इय विसयपलक्कओ'  
(कुप्र ४२७; नाट) ।

पलक्ख पुं [प्लक्ष] वड़ का पेड़ (कुमा; पि  
१३२) ।

पलग न [पलक] फल-विशेष (आचा २, १,  
८, ६) ।

पलज्जण वि [प्ररज्जन] रागी, अनुराग वाला;  
'अवम्मपलज्जण —' (राया १, १८; श्रीप) ।

पलट्ट अक [परि + अस्] १ पलटना,  
बदलना । २ सक. पलटाना, बदलाना । पलट्टइ  
(पिंग); 'कोहाइकारणेवि हु नो वयणसिंरि  
पलट्टंति' (संघोष १८) । संकृ. पलट्टि (अप)  
(पिंग) । देखो पलट्ट ।

पलत्त वि [प्रलपित] १ कथित, उक्त, प्रलाप-  
युक्त (सुपा ११४; से ११, ७६) । २ न.  
प्रलाप, कथन (श्रीप) ।

पलय पुं [प्रलय] १ युगान्त, कल्पान्त-काल ।  
२ जगत का अपने कारण में लय (से २,  
२; पउम ७२, ३१) । ३ विनाश; 'जायवजाइ-  
पलए' (ती ३) । ४ चेष्टा-क्षय । ५ छिपना  
(हे १, १८७) । क्व पुं [र्क] प्रलय-काल  
का सूर्य (पउम ७२, ३१) । षण पुं [वन]  
प्रलय का भेद (सण) । षण पुं [नल]  
प्रलय काल की आग (सण) ।

पलल न [पलल] १ तिल-चूर्ण, तिल-शोद  
(परह २, ५; पिड १६५) । २ मांस (कुप्र  
१८७) ।

पललित न [प्रललित] १ प्रकीर्णित (राया  
१, १—पत्र ६२) । २ अंग-विन्यास (परह  
२, ४) ।

पलव तक [प्र + लप्] प्रलाप करना, वक-  
नाद करना । पलवदि (श्री) (नाट—वेणी  
१७) । वक्र. पलवंत, पलवमाण (काल;  
सुर २, १२५; सुपा २५०; ६४१) ।

पलवण न [प्लवन] उछलना, उच्छलन;  
'संपाइमवाउवहो पलवण आउवघाओ य'  
(श्रीघ ३४८) ।

पलवण न [प्लवन] उछलना, उच्छलन;  
'संपाइमवाउवहो पलवण आउवघाओ य'  
(श्रीघ ३४८) ।

पलवण न [प्लवन] उछलना, उच्छलन;  
'संपाइमवाउवहो पलवण आउवघाओ य'  
(श्रीघ ३४८) ।

पलविअ } वि [प्रलपित] १ अनर्थक कहा  
पलवित } हुआ । २ न. अनर्थक भापण (चंड;  
पह १, २) ।

पलविर वि [प्रलपित] वकवादी (दे ७,  
५६) ।

पलस न [दे] १ कापसि-फल । २ स्वेद,  
पत्तीना (दे ६, ७०) ।

पलस (अप) न [पलाश] पत्र, पत्ती (भवि) ।  
पलसु ली [दे] सेवा, पूजा, भक्ति (दे  
६, ३) ।

पलहि पुंती [दे] कपास (दे ६, ४; पात्र;  
वज्जा १८६; हे २, १७४) ।

पलहिअ वि [दे] १ विपम, असम । २ पुंन.  
आवृत जमीन का वास्तु (दे ६, १५) ।

पलहिअ वि [दे. उपलहृदय] मूलं,  
पाषाण-हृदय (पड) ।

पलहुअ वि [प्रलधुक्र] १ स्वल्प, थोड़ा । २  
छोटा (सं १, ३३; गड) ।

पला देखो पलाय = परा + अय; 'जं जं  
भणामि अहयं सयलंपि वहि पलाइ तं तुज्म'  
(आत्मानु २३), पलासि, पलामि (पि  
५६७) ।

पलाअंत } देखो पलाय = परा + अय ।  
पलाइअ }

पलाइअ } वि [पलायित] १ भागा हुआ,  
पलाण } नष्ट; 'पलाइए हलिए' (गा ३६०);  
'रिउणो सिल्लं जह पलाए' (अमवि ५६;  
५१; पउम ५३, ८४; शोध ४६७; उप १३६  
टी; सुपा २२; ५०३; ती १५; सए; महा) ।  
२ न. पलायन (दस ४, ३) ।

पलाण न [पलायन] भागना (सुपा ४६४) ।

पलाणिअ वि [पलायनित] जिसने पलायन  
किया हो वह; भागा हुआ; 'तेणवि आगच्छंतो  
विन्नाओ तो पलाणिओ दूर' (सुपा ४६४) ।

पलात वि [प्रलात] गृहीत (चंड) ।

पलाय अक [परा + अय] भाग जाना,  
नासना । पलायइ, पलाअसि (महा; पि  
५६७) । भवि. पलाइस्तं (पि ५६७) । वक्र.  
पलाअंत, पलायमाण (गा २६१; गाय  
१८; आक १८; उप पृ २६) । संक्र. पलाइअ  
(नाट; पि ५६७) । हेक्र. पलाइअं (आक  
१६; सुपा ४६४) । कृ. पलाइअव्व (पि  
५६७) ।

पलाय पुं [दे] चोर, तस्कर (दे ३, ८) ।

पलाय देखो पलाइअ = पलायित (गाया १,  
३; स १३१; उप पृ २५७; वण ४८) ।

पलायण न [पलायन] भागना (शोध २६,  
सुर २, १४) ।

पलायणया ली. ऊपर देखो (चिदय ४४६) ।

पलायमाण देखो पलाय = परा + अय ।

पलाल वि [प्रलाल] प्रकृत लालावाला (अणु  
१४१) ।

पलाल न [पलाल] हृण-विशेष, गुमाल (पह  
२, ३; पात्र; आचा) । 'पीडय न [पीठक]  
पलाल का आसन (निचू १२) ।

पलाला वि [पलालक] पलाल—गुमाल का  
वना हुआ (आचा २, २, ३, १४) ।

पलाय सक [नाशय] भगाना, नष्ट करना ।  
पलावइ (हे ४, ३१) ।

पलाय पुं [पलाय] पानी को बाढ़ (तंडु ५०  
टी) ।

पलाय पुं [प्रलाप] अनर्थक भापण; वकवाद  
(महा) ।

पलायण न [नाशन] नष्ट करना, भगाना  
(कुमा) ।

पलावि वि [प्रलापिन्] वकवादी, 'असंबद्ध-  
पलाविणी एता' (कुप्र २२२; संबोध ४७;  
अमि ४६) ।

पलाविअ वि [पलावित] डुनाया हुआ,  
भिगाया हुआ (सुर १३; २०४; कुप्र ६०;  
६७, सए) ।

पलाविअ वि [प्रलापित] अनर्थक घोषित  
करवाया हुआ; 'मंछुडु कि दुच्चरिउ पलाविउ  
सज्जणजणहो नाउं लज्जाविउ' (भवि) ।

पलाविर वि [प्रलपित] वकवादी करनेवाला;  
'अहह असंबद्धपलाविरस्त वडुयस्त पेच्छ मह  
पुरओ' (सुपा २०१), 'दिव्वनाणीव जंपेइ;  
एओ एवं पलाविरो' (सुपा २७७) ।

पलास पुं [पलाश] १ वृक्ष-विशेष, किशुक  
का वृक्ष, डाक (वज्जा १५२; गा ३११) । २  
रासस (वज्जा १३०; गा ३११) । ३ पुंन.  
पत्र, पत्ता (पात्र; वज्जा १५२) । ४ भद्रशाल  
वन का एक दिहल्ली कूट (ठा ८—पत्र ४३६;  
इक) ।

पलासि ली [दे] भल्ली; द्योम भला; यत्र-  
विशेष (दे ६, १४) ।

पलासिया ली [दे. पलाशिका] स्वकाष्ठिका,  
छाल की वनी हुई लकड़ी (सुप्र १, ४,  
२, ७) ।

पलाह देखो पलास (संवि १६; पि २६२) ।

पलि देखो परि (सुप्र १, ६, ११; २, ७,  
३६; उत्त २६, ३४; पि २५७) ।

पलिअ न [पलित] १ वृद्ध अवस्था के कारण  
वालों का पकना, केशों की शैतता । २ बदन  
की कुरियां (हे १, २१२) । ३ कर्म, कर्म-  
पुद्गल; 'जे केइ सत्ता पलियं चयंति' (आचा  
१, ४, ३, १) । ४ घृणित अनुष्ठान; 'सि  
आकुट्टे वा हए वा लुं चिए वा पलियं पकंथे'  
(आचा १, ६, २, २) । ५ कर्म, काम  
(आचा १, ६, २, २) । ६ ताप । ७ पंक,  
कादा । ८ वि. शिथिल । ९ वृद्ध, बूढ़ा (हे  
१, २१२) । १० पका हुआ, पक्का (वर्म २;  
निचू १५) । ११ जरा-ग्रस्त; 'न हि दिज्जइ  
आहरणं पलियत्तयकरणहयस्स' (राज) ।  
'ढाण, 'ठाण न [स्थान] कर्म-स्वान,  
कारखाना (आचा १, ६, २, २) ।

पलिअ न [पल] चार कर्प या तीन सौ बीस  
गुञ्जा की नाप (तंडु २६) ।

पलिअ देखो पड = पत्य (पव १५८; मग  
जी २६; नव ६; दं २७) ।

पलिअ (अप) देखो पडिअ (पिग) ।

पलिअंक पुं [पर्यङ्क] परलंग, खाट (हे २,  
६८; सम ३५; औप) । 'आसण न  
[आसन] आसन-विशेष (सुपा ६५५) ।

पलिअंका ली [पर्यङ्का] पचासन, आसन-  
विशेष (ठा ५, १—पत्र ३००) ।

पलिउंच सक [परि + कुञ्च] १ अपलाप  
करना । २ ठगना । ३ छिपाना, गोपन  
करना । पलिउंचंति, पलिउंचयंति (उत्त २७,  
१३; सुप्र १, १३, ४) । संक्र. पलिउंचिय  
(आचा २, १, ११, १) । वक्र. पलिउंचमाण  
(आचा १, ७, ४, १; २, ५, २, १) ।

पलिउंचणा न [परिकुञ्चन] माया, कपट  
(सुप्र १, ६, ११) ।

पलिउंचणा ली [परिकुञ्चना] १ सच्ची  
वात को छिपाना । २ माया (ठा ४, १

दो—पत्र २००)। ३ प्रायश्चित्त-विशेष (ठा ४, १)।

पलिउंचि वि [परिकुञ्चिन] मायावो, कपटो (वत्र १)।

पलिउंचिय वि [परिकुञ्चित] १ वञ्चित।

२ न. माया, कुटिलता (वत्र १)। ३ गुरु-वन्दन का एक दोष, पूरा वन्दन न करके ही गुरु के साथ वातें करने लग जाना (पत्र २)।

पलिउंचिय देखो परिउंचिय (भग)।

पलिउञ्चन्न देखो पलिओञ्चन्न (आचा १, ५, १, ३)।

पलिउञ्चूढ देखो पलिओञ्चूढ (ओप—पृ ३० टि)।

पलिउञ्जिय वि [परियोगिक] परित्तानी, जानकार (भग २, ५)।

पलिऊल देखो पडिऊल (नाट—विक्र १८)।

पलिओञ्चन्न वि [पलितावञ्चन्न] कर्मा-वटव्व, कुकर्मा (आचा; १, ५, १, ३)।

पलिओञ्चिन्न वि [पर्यवञ्चिन्न] ऊपर देखो (आचा; पि २५७)।

पलिओञ्चूढ वि [पर्यवञ्चित] प्रसारित (ओप)।

पलिओवम पुंन [पल्योपम] समय-मान-विशेष, काल का एक दोष परिमाण (ठा २, ४; भग; महा)।

पलिचा (शौ) देखो पडिण्णा (पि २७६)।

पलिकुंचणया देखो पलिउंचणा (सम ७१)।

पलिक्खीण वि [परिक्षीण] क्षय-प्राप्त (सूत्र २, ७, ११; ओप)।

पलिगोव पुंन [परिगोप] १ पङ्क, कादा, कदो। २ आसक्ति (सूत्र १, २, २, ११)।

पलिञ्चण्ण वि [परिञ्चन्न] १ समन्ताद् पलिञ्चन्न } व्याप्त (साया १, २—पत्र ७८; १, ४)। २ निरुद्ध, रोकता हुआ; 'ऐतेहि पलिञ्चन्नेहि' (आचा १, ४, ४, २)।

पलिञ्चाअ सक [परि + छादय्] ढकना; आच्छादन करना। पलिञ्चाएइ (आचा २, १, १०, ६)।

पलिञ्चिद सक [परि + छिद्] छेदन करना, काटना। संक. पलिञ्चिदिय, पलि-ञ्चिदियाणं (आचा १, ४, ४, ३; १, ३, ३, १)।

पलिञ्चिद वि [परि + छिद्] छेदन करना, काटना। संक. पलिञ्चिदिय, पलि-ञ्चिदियाणं (आचा १, ४, ४, ३; १, ३, ३, १)।

पलिञ्चिद सक [परि + छिद्] छेदन करना, काटना। संक. पलिञ्चिदिय, पलि-ञ्चिदियाणं (आचा १, ४, ४, ३; १, ३, ३, १)।

पलिञ्चिद सक [परि + छिद्] छेदन करना, काटना। संक. पलिञ्चिदिय, पलि-ञ्चिदियाणं (आचा १, ४, ४, ३; १, ३, ३, १)।

पलिञ्चिन्न वि [परिञ्चन्न] विञ्चन्न, काटा हुआ (सूत्र १, १६, ५; उप ५८५; सुर ६, २०६)।

पलित्त वि [प्रदीप्त] ज्वलित (कुप्र ११६; सं ७७; भग)।

पलिपाग देखो परिपाग (सूत्र २, ३, २१; आचा)।

पलिप्प अक [प्र + दीप्] जलना। पलिप्पइ (पइ; प्राक १२)। वक, पलिप्पमाण (पि २४४)।

पलिपाहर } वि [परिवाह] हमेशा बाहर  
पलियाहिर } होनेवाला (आचा)।

पलिभाग पुं [परिभाग, प्रतिभाग] १ निर्विभागी अंश (कम्म ४, ८२)। २ प्रति-नियत अंश (जीवस १५४)। ३ सादृश्य, समानता (राज)।

पलिभिद सक [परि + भिद्] १ जानना। २ बोलना। ३ भेदन करना, तोड़ना। संक.

पलिभिदियाणं (सूत्र १, ४, २, २)।

पलिभेय पुं [परिभेद्] चुरना (निच्च ५)।

पलिमंथ सक [परि + मन्थ्] वांघना। पलिमंथए (उत्त ६, २२)।

पलिमंथ पुं [परिमन्थ] १ विनाश (सूत्र २, ७, २६; वित्ते १४५७)। २ स्वाध्याय-व्याघात (उत्त २६, ३४; धम्मसं १०१७)। ३ विघ्न, बाधा (सूत्र १, २, २, ११ टी)। ४ मुवा व्यापार, व्यवर्ध क्रिया (आवक १०६; ११२)।

पलिमंथग पुं [परिमन्थक] १ धान्य-विशेष, काला चना (सूत्र २, २, ६३)। २ गोल चना। ३ विलंब (राज)।

पलिमंथु वि [परिमन्थु] सर्वथा धातक (ठा ६—पत्र ३७१; कस)।

पलिमद् देखो परिमद्। परिमद्देज्जा (पि २५७)।

पलिमद् वि [परिमद्] मालिश करनेवाला (निच्च ६)।

पलिमोक्ख देखो परिमोक्ख (आचा)।

पलियंचण न [पर्यञ्चन] परिभ्रमण (सुर ७, २४३)। देखो परियंचण।

पलियंत पुं [पर्यन्त] १ अन्त भाग (सूत्र १, ३, १, १५)। २ वि. अवसानवाला, अन्त-

वाला; 'पलियंतं मणुयाण जीवियं' (सूत्र १, २, १, १०)।

पलियंत न [पल्यान्तर] पल्योपम के भीतर (सूत्र १, २, १, १०)।

पलियस्स न [परिपार्थ] समीप, पास, निकट (भग ६, ५—पत्र २६८)।

पलित्त देखो पलिअ = पलित (हे १, २१२)। पलित्व देखो पलीव। पलित्वेइ (पि २४४)।

पलिवग देखो पलीवग (राज)।

पलिविअ वि [प्रदीपित] जलाया हुआ (पइ; हे १, १०१)।

पलिविदंस अक [परिवि + ध्वंस] नष्ट होना। पलिविदंसिज्जा (अणु १८०)।

पलिसय } सक [परि + स्वञ्] आलिंगन  
पलिस्सय } करना, स्पर्श करना, छूना।

पलिस्सएज्जा (वृह ४)। वक. पलिसयमाणे गुरुणा दो लहुगा आणमाईणि' (वृह ४)।

हेक. पलिस्सइउं (वृह ४)।

पलिइ देखो परिह = परिव (राज)।

पलिहअ वि [दे] मूर्ख, देवकूफ (दे ६, २०)।

पलिहइ वी [दे] क्षेत्र, खेत; 'नियपलिहइइ दोहिंवि किसिकम्मं काउमाढत्तं' (सुर १५, २०१)।

पलिहरस न [दे] ऊर्ध्वं तार, काष्ठ-विशेष (दे ६, १६)।

पलिहाय पुं [दे] ऊपर देखो (दे ६, १६)।

पली सक [परि + इ] पर्यटन करना, भ्रमण करना। पलेइ (सूत्र १, १३, ६), पलित्ति (सूत्र १, १, ४, ६)।

पली अक [प्र + ली] लीन होना, आसक्ति करना। पलित्ति (सूत्र १, २, २, २२)।

वक. पलेमाण (आचा १, ४, १, ३)।

पलीण वि [प्रलीन] १ अति लीन (भग २५, ७)। २ संवद्ध (सूत्र १, १, ४, २)। ३ प्रलय-प्राप्त, नष्ट (सुर ४, १५४)। ४ छिपा हुआ, लीन (सुर ६, २८)।

पलीमंथ देखो पलिमंथ (सूत्र १, ६, १२)।

पलीव अक [प्र + दीप्] जलना। पलीवइ (हे ४, १५२; पइ)।

पलीव सक [प्र + दीपय्] जलाना, सुलगाना। पलीवइ, पलीवेइ (महा; हे १, २२१)। संक. पलीविऊण, पलीविअ (कुप्र १६०; गा ३३)।

पलीव पुं [प्रदीप] दीपक, दीया (प्राक् १२; पड्)।

पलीवग वि [प्रदीपक] आग लगानेवाला (पएह १, १)।

पलीवण न [प्रदीपन] आग लगाना (श्रा २८; कुप्र २६)।

पलीवणया स्त्री. ऊपर देखो (निचू १६)।

पलीविअ देखो पलीव = प्र + दीपय्।

पलीविअ वि [प्रदीप] प्रज्वलित (पाग्र)।

पलीविअ वि [प्रदीपित] जलाया हुआ (उच)।

पलुंपण न [प्रलोपन] प्रलोप (श्रौप)।

पलुट्ट वि [प्रलुठित] लेटा हुआ (दे १, ११६)।

पलुट्ट देखो पलोट्ट = पर्यस्त (हे ४, ४२२)।

पलुट्टिअ देखो पलोट्टिअ = पर्यस्त (कुमा ४, ७५)।

पलुट्ट वि [प्लुट्ट] दग्ध, जला हुआ (सुर ६, २०६; सुपा ४)।

पलेमाण देखो पली = प्र + ली।

पलेव पुं [प्रलेप] एक जाति का पत्थर, पाषाण-विशेष (जी ३)।

पलोअ सक [प्र + लोक्, लोक्य] देखना, निरीक्षण करना। पलोयइ, पलोअए, पलोएइ (सण; महा)। कर्म. पलोइञ्जइ (कण्)। वङ्. पलोअंत, पलोअअंत, पलोअंत, पलोएमाण, पलोयमाण (रयण १४; नाट—माचती ३२; महा; पि २६३; सुपा ४४; ३५१)।

पलोअण न [प्रलोकन] अवलोकन (सि १४, ३५; गा ३२२)।

पलोअणा स्त्री [प्रलोकना] निरीक्षण (श्रोध ३)।

पलोइ वि [प्रलोकित] प्रेक्षक (श्रौप)।

पलोइअ वि [प्रलोकित] देखा हुआ (गा ११८; महा)।

पलोइर वि [प्रलोकित] प्रेक्षक (गा १८०; भवि)।

पलोअंत } देखो पलोअ।  
पलोएमाण }

पलोअर [दे] देखो परोहड (गा ३१३ अ)।

पलोट्ट सक [प्रत्या + गम्] लौटना, वापस आना। पलोट्टइ (हे ४, १६६)।

पलोट्ट सक [परि + अस्] ? फँकना। २ मार गिराना। ३ अक. पलटना, विपरीत होना। ४ प्रवृत्ति करना। ५ गिरना। पलोट्टइ, पलोट्टइइ (हे ४, २००; भग; कुमा)। वङ्. पलोट्टंत (वजा ६६; गा २२२)।

पलोट्ट अक [प्र + लुट्] जमीन पर लौटना। वङ्. पलोट्टंत (सि ५, ५८)।

पलोट्ट वि [पर्यस्त] ? क्षिप्त, फँका हुआ। २ हत। ३ विक्षिप्त (हे ४, २५८)। ४ पतित, गिरा हुआ (गा १७०)। ५ प्रवृत्त; स्थिता वणभागा तत्रो पलोट्टा जवा जला-लोषा' (कुमा)।

पलोट्टजीह वि [दे] रहस्य-भेदी, बात को प्रकट करनेवाला (दे ५, ३५)।

पलोट्टण न [प्रलोठन] कुलकाना, लुडकाना, गिराना (उप पृ ११०)।

पलोट्टिअ देखो पलोट्ट = पर्यस्त (कुमा)।

पलोम सक [प्र + लोभय्] चुनाना, लालच देना। पलोमेदि (शौ) (नाट—मृच्छ ३१३)।

पलोभविअ वि [प्रलोभित] चुनाया हुआ (घर्नवि ११२)।

पलोभि वि [प्रलोभिन्] विशेष लोभी (घर्नवि ७)।

पलोभिअ देखो पलोभविअ (सुपा ३४३)।

पलोव (अप) देखो पलोअ। पलोवइ (भवि)।

पलोहर [दे] देखो परोहड (गा ६८५ अ)।

पलोहिद (शौ) देखो पलोभिअ (नाट)।

पल्ल पुं [पल्य] ? गोल आकार का एक धान्य रखने का पात्र (पव १५८; ठा ३, १)।

२ काल-भरिमाण विशेष, पल्योपम (पउम २०, ६७; दं २७)। ३ संस्थान-विशेष, पल्यक संस्थान; 'पल्लासंठाणसंठिया' (सम ७७)।

पल्ल पुं [पल्ल] धान्य भरने का बड़ा कोठा, 'बहवे पल्ला सालीणं पडिपुरणा चिदुंति' (खाया १, ७—पत्र ११५)।

पल्लक देखो पलिअक (हे २, ६८; पड्)।

पल्लक पुं [पल्यङ्क] शाक-विशेष, कन्द विशेष (श्रा २०; जी ६; पव ४; संबोध ४४)।

पल्लवण न [प्रलङ्घन] ? अतिक्रमण (ठा ७)। २ गमन, गति (उत्त २४, ४)।

पल्लग देखो पल्ल = पल्ल (विसे ७०६)।

पल्लट्ट देखो पल्लट्ट = परि + अस्। पल्लट्टइ (हे ४, २००; भवि)। संक्र. पल्लट्टिअंत (पंचा १३, १२)।

पल्लट्ट पुं [दे] पर्यंत-विशेष (पएह १, ४)।

पल्लट्ट पुं [दे. परिवर्त] काल-विशेष, अनन्त काल चक्रों का समूह (धण ४७)।

पल्लट्ट } देखो पलोट्ट = पर्यस्त (हे २, ४७; पल्लट्टय् } ६८)।

पल्लट्टि स्त्री [पर्यस्ति] आसन-विशेष, पल्यो; 'पायपसारणं पल्लट्टिवंधणं विवपट्टिदाणं च। उच्चासणसेवणया जिणपुरयो भन्नइ अवनशा ॥' (चिइय ६०)। देखो पल्लट्टिय्या।

पल्ल न [पल्लल] छोटा तलाव (प्राक् १७; गाय १, १; सुपा ६४६; स ४२०)।

पल्लव पुं [पल्लव] ? किसलय, अंकुर (पाग्र, श्रौप)। २ पत्र, पत्ता (सि २६)। ३ देश-विशेष (भवि)। ४ विस्तार (कण्)।

पल्लव देखो पज्जव (सम ११३)।

पल्लवाय न [दे] क्षेत्र, खेत (दे ६, २६)।

पल्लविअ वि [दे] लाला-रक्त (दे ६, १६; पाग्र)।

पल्लविअ वि [पल्लवित] ? पल्लवाकार (दे ६, १६)। २ अंकुरित, प्रादुर्भूत, उत्पन्न (दे १, १)। ३ पल्लव-युक्त (रंभा)।

पल्लविल्ल वि [पल्लववत्] पल्लव-युक्त (सुपा ५; धण २४)।

पल्लविल्ल देखो पल्लव (हे २, १६४)।

पल्लस देखो पलोट्ट = परि + अस्। पल्लसइ (प्राक् ७२)।

पल्लाण न [पर्याण] अथ आदि का साज, 'कि करिणो पल्लाणं उच्चोडुं रासनो तरइ' (प्रवि १७; प्राप्र)।

पल्लाण सक [पर्याणय्] अथ आदि को सजाना। पल्लाणेह (स २२)।

पल्लाणिअ वि [पर्याणित] पर्याण-युक्त (कुमा)।

पडि स्त्री [पडि] ? छोटा गाँव। २ चौरों के निवास का गहन स्थान (उप ७२८ टी)।

नाह पुं [नाथ] पत्नी का स्वामी (सुपा ३५१; सुर २, ३३)। वइ पुं [पति] वही अर्थ (सुर १; १६१; सुपा ३५१)।

पल्लिअ वि [दे] १ आक्रान्त (निचू २)। २ अस्त (निचू १)। ३ प्रेरित; 'पल्लट्टा पल्लिआरुह्व' (धण ४७)।

पल्लित्त वि [दे] पर्यस्त (पइ)।

पल्ली देखो पल्लि (गउड; पंचा १०; ३६; सुर २, २०४)।

पल्लीण वि [प्रलीन] विशेष लीन; 'युत्तिविए अल्लीणे पल्लीणे चिट्ठइ' (भग २५, ७; कप्प)।

पल्लोट्टीह [दे] देखो पल्लोट्टीह (पइ)।

पल्लत्थ देखो पलोट्ट + परि + अस्। पल्लत्थइ (हे ४, २००)। वक. पल्लत्थंत (से १०, १०; २, ५)। कवक. पल्लत्थंत (से ८, ८३; ११, ६६)।

पल्लत्थ सक [वि + रेचय्] बाहर निकालना। पल्लत्थइ (हे ४, २३)।

पल्लत्थ देखो पलोट्ट = पर्यस्त; 'करत्तल-पल्लत्थमुहे' (सुत्र २, २, १६; हे ४, २५८)।

पल्लत्थण न [पर्यसन] फेंक देना, प्रलेपण; 'अन्नदा भुवणपल्लत्थणपवणो समुत्तिदो दुट्टपवणो (मोह ६२)।

पल्लत्थरण देखो पत्तत्थरण (से ११, १०८)।

पल्लत्थाविअ वि [विरोचित] बाहर निकलनाया हुआ (कुमा)।

पल्लत्थिअ देखो पलोट्ट = पर्यस्त (से ७, २०; शाया १, ४६—पत्र २१६; सुपा ७६)।

पल्लत्थिया स्त्री [पर्यस्तिका] आसन-विशेष— १ दोनों जानु खड़ा कर पीठ के साथ चादर लपेटकर बैठना (पव ३८)। २ जंघा पर वस्त्र लपेटकर बैठना। ३ जंघा पर पांव रखकर बैठना (उत्त १, १६)। पट्ट पुं [पट्ट] योग-पट्ट (राज)।

पल्लय पुं [पल्लय] १ अनाथ देश-पल्लय विशेष (कस; कुप्र ६७)। २ पुंस्त्री-पल्लय देश का निवासी (भग ३, २—पत्र १७०; अंत)। स्त्री. वी, विया (पि ३३०; श्रौप; शाया १, १—पत्र ३७; इक)।

पल्लवि पुंस्त्री [दे. पल्लवि] हाथों की पीठ पर बिछाया जाता एक तरह का कपड़ा, 'पल्लवि इत्थत्थरण' (पव ८४)।

पल्लविया } देखो पल्लव।  
पल्लवी }

पल्लाय सक [प्र = ह्लाद्] आनन्दित करना, खुशी करना। पल्लायइ (संबोध १२)। वक. पल्लायंत (उव; सुर ३, १२१)। क. देखो पल्लायणिज्ज।

पल्लाय पुं [प्रह्लाद्] १ आनन्द, खुशी (कुमा)। २ हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का पुत्र (हे २, ७६)। ३ आठवाँ प्रतिवामुदेव राजा (पउम ५, १५६)। ४ एक विद्यावर नरेश (पउम १५, ५)।

पल्लायण न [प्रह्लादन] १ चित्त-प्रसन्नता, खुशी (उत्त २६, १७)। २ वि. आनन्द-वामक (सुपा ५०७)। ३ पुं. रावण का एक सुभट (पउम ५६, ३६)।

पल्लायणिज्ज वि [प्रह्लादनीय] आनन्द-जनक (शाया १, १—पत्र १३)।

पल्लीय पुं. व. [प्रह्लीक] देश-विशेष (पउम ६८, ६६)।

पव सक [पा] पीना। क. 'अरत्तमेहा' 'अ-प्पवणिज्जो दगा' 'वासं वासिहिति' (भग ७, ६—पत्र ३०५)।

पव अक [प्लु] १ फरकना। २ सक. उछल कर जाना। ३ तैरना। पवज (सुत्र १, १, २, ८)। वक. पवंत, पवमाण (से ५, ३७; आचा २, ३, २, ४)। हेक. पविउं (सुत्र १, १, ४, २)।

पव पुं [प्लव] १ पूर (कुमा)। २ उच्छलन, कूदना। ३ तरण, तैरना। ४ भेक, मेढक। ५ वानर, बन्दर। ६ चाण्डाल, डोम। ७ जल-काक। ८ पाकुड़ का पेड़। ९ कारण्डव पक्षी। १० शब्द, आवाज। ११ सिपु, दुरमन। १२ मेघ, मेंढा। १३ जल-कुक्कुट। १४ जल, पानी। १५ जलचर पक्षी। १६ नौका, नाव (हे २, १०६)।

पव वीत [प्रपा] पानीयशाला, प्याज; 'सहाणि वा पवाणि वा' (आचा २, २, २, १०)।

पवंग पुं [प्लवङ्ग] १ वानर (से २, ४६; ४, ४७)। २ वानर-वंशीय मनुष्य। नाह पुं

[नाथ] वानर-वंशीय राजा; वाली (पउम ६, २६)। वइ पुं [पति] वानरराज (पि ३७६)।

पवंगम पुं [प्लवंगम] १ वानर (पात्र; से ६, १६)। २ छन्द-विशेष (पिप)।

पवंच पुं [प्रपञ्च] १ विस्तार (उप ५३० टी; श्रौप)। २ संसार (सुत्र १, ७; उव)। ३ प्रतारण, ठगाई (उव)।

पवंचण न [प्रपञ्चन] विप्रतारण, वञ्चना, ठगाई (पएह १, १—पत्र १४)।

पवंचा स्त्री [प्रवञ्चा] मनुष्य की दश दशाओं में सातवीं दशा—६० से ७० वर्ष की अवस्था (ठा १०; तंडु १६)।

पवंचिअ वि [प्रपञ्चित] विस्तारित (आ १४; कुप्र ११८)।

पवंच्च सक [प्र + वाञ्छ्] वाञ्छना, अभिलाषा करना। वक. पवंच्चमाण (उप पृ १८०)।

पवंत देणो पव = प्लु।

पवंपुल पुंन [दे] मच्छी पकड़ने का जाल-विशेष (विपा १, ८—पत्र ८५)।

पवक वि [प्लवक] १ उछल-कूद करनेवाला। २ तैरनेवाला (पएह १, १ टी—पत्र २)। ३ पुं. पक्षी। ४ देवजाति-विशेष, सुपर्णकुमार नामक देव-जाति (पएह २, ४—पत्र १३०)।

पवकखमाण देखो पवय = प्र + वच्।

पवग देखो पवक (पएह २, ४; कप्प; श्रौप)।

पवज्ज सक [प्र + पट्] स्वीकार करना। पवज्जइ, पवज्जिजा (भवि; हित २०)। भवि. पवज्जिहिसि (गा ६६१)। वक. पवज्जंत (आ २७)। संक. पवज्जिय (मोह १०)। क. पवज्जियव्व (पंचा १६)।

पवज्जण न [प्रपदन] स्वीकार, अंगीकार (स २७१; पंचा १४, ८; आवक १११)।

पवज्जा देखो पवज्जा (महानि ४)।

पवज्जिय वि [प्रपन्न] स्वीकृत, अंगीकृत (वर्मवि ५३; कुप्र २६५; सुपा ४०७)।

पवज्जिय वि [प्रवादित] जो वजने लगा हो (स ७५६)।

पवज्जिय देखो पवज्ज।

पवट्ट अक [प्र + वृत्] प्रवृत्ति करना। पवट्टइ (महा)।



पवट्ट वि [प्रवृत्त] जिसने प्रवृत्ति की हो वह (पड; हे २, २६ टि)।

पवट्टय वि [प्रवर्त्तक] प्रवृत्ति करानेवाला (राज)।

पवट्टि व्री [प्रवृत्ति] प्रवर्त्तन (हम्मोर १५)।

पवट्टिअ वि [प्रवर्त्तित] प्रवृत्त किया हुआ (भवि; दे)।

पवट्ट देखो पउट्ट = प्रकोष्ठ (हे १, १५६)।

पवड अक [प्र + पन्] पड़ना, गिरना।

पवडइ. पवडिज्ज, पवडेज्ज (भग; कप्प; आचा २, २, ३, ३)। वक. पवडंत, पवडेमाण (साया १, १; तिरि ६८३; आचा २, २, ३, ३)।

पवडण न [प्रपतन] अयःपात (वृह ६)।

पवडणया } व्री [प्रपतना] ऊपर देखो (ठा पवडणा } ४, ४—पत्र २८०; राज)।

पवडेमाण देखो पवड।

पवड्ह अक [दे] पोढ़ना; सोना; 'जाव राया पवड्हइ ताव कहेहि किचि अक्खाण्यं' (सुख २, १)।

पवड्ह अक [प्र + वृध.] बढ़ना। पवड्हइ (जव)। वक. पवड्हमाण (कप्प; सुर १, १८१; थु १२४)।

पवड्ह वि [प्रवृद्ध] बढ़ा-हुआ (अज्ज ७०)।

पवड्हण न [प्रवर्धन] ? बढ़ाव, प्रवृद्धि (संघोष ११)। २ वि. बढ़ानेवाला; 'संसारस्स पवड्हणं' (सुत्र १, १, २, २४)।

पवड्हिय वि [प्रवर्धित] बढ़ाया हुआ (भवि)।

पवण वि [प्रवण] ? तत्पर (कुप्र १३४)। २ तंदुरस्त, स्वस्थ, मुस्य; 'पडियरियो तह, पवणो पुवं व जहा स संजाओ' (उप ५६७ टी; कुप्र ४१८)।

पवण न [प्लवन] ? उछल कर गमन (जीव ३)। २ तरण; 'तरिउकामस्स पवणं (? वण) किचं' (साया १, १४—पत्र १६१)। 'किञ्च पुं [कृत्य] नौका, नाव, डोंगी (साया १, १४)।

पवण पुं [पवन] ? पवन, वायु (पाय; प्रासू १०२)। २ देव-जाति विशेष, भवनपति देवों की एक अवात्तर जाति; पवनकुमार (ओप; पएह १, ४)। ३ हनुमान का पिता (से १,

४८)। 'गइ पुं [गति] हनुमान का पिता (पउम १५, ३७), वानरद्वीप के राजा मन्दर का पुत्र (पउम ६, ६८)। 'चंड पुं [चण्ड] व्यक्ति-वाचक नाम (महा)। 'तणअ पुं [तनय] हनुमान (से १, ४८)। 'नंदण पुं [नन्दन] हनुमान (पउम १६, २७; सम्मत १२३)। 'पुत्त पुं [पुत्र] हनुमान (पउम ५२, २८)। 'वेग पुं [वेग] ? हनुमान का पिता (पउम १५, ६५)। २ एक जैन मुनि (पउम २०, १६०)। 'सुअ पुं [सुत] हनुमान (पउम ४६, १३; से ४, १३; ७, ४६)। 'णंद पुं [नन्द] हनुमान (पउम ५२, १)।

पवणजअ पुं [पवनजय] ? हनुमान का पिता (पउम १५, ६)। २ एक श्रेष्ठ-पुत्र (कुप्र ३७७)।

पवणिय वि [प्रवणित] सुस्थ किया हुआ, तंदुरस्त किया हुआ (उप ७६८ टी)।

पवण्य देखो पवन्न (सण)।

पवत्त देखो पवट्ट = प्र + वृत्। पवत्तइ, पवत्तए (पव २४७; उव)।

पवत्त सक [प्र + वर्त्तय] प्रवृत्त करना। पवत्तइ, पवत्तेहि (वव १; कप्प)।

प्रवत्त देखो पवट्ट = प्रवृत्त (पउम ३२, ७०; स ३७६; रंभा)।

पवत्तग वि [प्रवर्त्तक] प्रवृत्ति करानेवाला (उप ३३६ टी; बर्मवि १३२)।

पवत्तण न [प्रवर्त्तन] ? प्रवृत्ति (हे २, ३०; उत ३१, २)। २ वि. प्रवृत्ति करानेवाला (उत ३१, ३; पएह १, ५)।

पवत्तय वि [प्रवर्त्तक] ? प्रवृत्ति करानेवाला (हे २, ३०)। वि. प्रवृत्त करानेवाला; 'तिल्यवरप्पवत्तयं' (अजि १८; गच्छ १, १०)।

पवत्ति व्री [प्रवृत्ति] प्रवर्त्तन। 'वाडय वि [व्यापृत] प्रवृत्ति में लगा हुआ (ओप)।

पवत्ति वि [प्रवत्तिन्] प्रवृत्ति करानेवाला (ठा ३, ३; कस; कप्प)।

पवत्तिणी व्री [प्रवत्तिनी] साध्वियों की अध्यक्षा, मुख्य जैन साध्वी (सुर १, ४१; महा)।

पवत्तिय देखो पवट्टिअ (काल)।

पवत्तिया व्री [दे] संन्यासी का एक उपकरण (कुप्र ३७२)।

पवद देखो पवय = प्र + वद। वक. पवदमाण (घाचा)।

पवदि व्री [प्रवृत्ति] ढकना, आच्छादन (संति ६)।

पवदइ देखो पवड्ह = प्र + वृत्। वक. पवदइमाण (चिइय ६१६)।

पवदइ पुं [दे] वन, हवीड़ा (दे ६, ११)।

पवदिय देखो पवड्हिय (महा)।

पवन्न वि [प्रपन्न] ? स्वीकृत, अंगीकृत (चिइय ११२; प्रासू २१)। २ प्रास्त; 'गुदयणगुदवियणपवन्नमाणासो' (महा)।

पवमाण देखो पव = प्लु।

पवमाण पुं [पवमाण] पवन, वायु (कुप्र ४४४; सुपा ८६)।

पवय सक [प्र + वट्ट] ? वकवाद करना। २ वाद-विवाद करना। वक. पवयमाण (आचा १, ५, १, ३)।

पवय सक [प्र + वच] बोलना, कहना। भवि. कवक. पवक्खमाण (वर्मसं २१)। कर्म. पवुच्चइ, पवुच्चइ, पवुचिति (कप्प; पि ५४४; भग)।

पवय देखो पवक = प्लवक (उप पृ २१०)।

पवय पुं [प्लवग] वानर, कपि (पउम ६५, ५०; हे ४; २२०; पाय; से २, ३७; १५, १७)। 'वइ पुं [पति] वानरों का राजा सुग्रीव (से २, ३६)। 'ण्हिय पुं [ण्हिय] वही पूर्वोक्त अर्थ (से २, ४०; १२, ७०)।

पवयण पुं [प्राजन] कोड़ा, चाबुक (दे २, ६७)।

पवयण न [प्रवचन] ? जिनदेव-प्रणीत सिद्धान्त, जैन शास्त्र (भग २०; न; प्रासू १८१)। २ जैन संघ; 'गुरासमुदाओ संघो प्रवयणं तित्थं ति होइ एण्डा' (पंचा ८, ३६; विते १११२; उप ४२३ टी; ओप)।

३ आंगम-ज्ञान (विते १११२)। 'माया व्री [माता] पंच समिति और तीन गुति रूप-धर्म (सम १३)।

पवर वि [प्रवर] श्रेष्ठ, उत्तम (जवा; सुपा ३१६; ३४१; प्रासू १२६; १५४)।

पवरंग न [दे. प्रवराङ्ग] सिर, मस्तक (दे ६, २८)।

पवरपुंडरीय पुंन [प्रवरपुण्डरीक] एक देव-विमान (आचा २, १५, २)।

पवरा स्त्री [प्रवरा] भगवान् व्रासुपुण्य की शासनदेवी (पव २७)।

पवरिस. सक [प्र + वृप्] वरसना, वृष्टि करना। पवरिसइ (भवि)।

पवल देखो पवल (कप्पु; कुप्र २४७)।

पवस अक [प्र + वस्] प्रयाण करना, विदेश जाना। वक्र. पवसंत (से १, २४; गा ६४)।

पवसण न [प्रवसन] प्रवास, विदेश यात्रा, मुसाफिरी (स १६६; उप १०३१ टी)।

पवसिअ वि [प्रोषित] प्रवास में गया हुआ (गा ४५; ८४०; सुर ५, २११; सुपा ४७३)।

पवह अक [प्र + वह] १ वहना। २ सक. टपकना, झरना। पवहइ (भवि; पिग)। वक्र. पवहंत (सुर २, ७५)। संक्र. पवहित्ता (सम ८४)।

पवहं सक [प्र + हन्] मार डालना। वक्र. 'पिच्छद्व पवहंतं मज्ज करवलं कलिय-करवालं' (सुपा ५७२)।

पवह वि [प्रवह] १ बहनेवाला। २ टपकनेवाला; बूनेवाला; अट्टु णालीओ अठंतरप्प-वहाओ' (विपा १, १—पत्र १६)।

पवह पुं [प्रवाह] १ नौत, बहाव, जल-वारा (गा ३६६, ५४१; कुमा)। २ प्रवृत्ति। ३ व्यवहार। ४ उत्तम अश्व (हे १, ६८)। ५ प्रभाव (राज)।

पवहण पुंन [प्रवहण] १ नौका, जहाज (णाय १, ३; पि ३५७)। २ गाड़ी आदि वाहन; 'जुंगगया गिल्लिगया थिल्लिगया पवहणगया' (ओप; वसु; चार ७०)।

पवहाइअ वि [दे] प्रवृत्त (दे ६, ३४)।

पवहाचिय वि [प्रवाहित] बहाया हुआ (भवि)।

पवा स्त्री [प्रवा] जलदान-स्थान, पानी-शाला, प्याऊ (ओप; पएह १, ३; महा)।

पवाइ वि [प्रवादिन्] १ वाद करनेवाला, वादी। २ दार्शनिक (सुत्र १, १; १; चउ ४७)।

पवाइअ वि [प्रवात] बहा हुआ (वापु); 'पवाइया कलंबवाया' (स ६८६; पउम ५७, २७; णाय १, ८; स ३६)।

पवाइअ वि [प्रवादित] बजाया हुआ (कप्प; ओप)।

पवाण (अप) देखो पमाण = प्रमाण (कुमा; पि २५१; भवि)।

पवाड संक [प्र + पातय] गिराना। वक्र. पवाडेमाण (भग १७, १—पत्र ७२०)।

पवादि देखो पवाइ (धर्मसं १३३)।

पवाय अक [प्र + वा] १ सुख पाना। २ वहना (हवा का)। ३ सक. गमन करना। ४ हिसा करना। पवायइ (प्राक ७६)। वक्र. पवार्यंत (आचा)।

पवाय पुं [प्रवाद] १ किंवदन्ती, जनश्रुति (सुपा ३००; उप पृ २६)। २ परंपरा-प्राप्त उपदेश। २ मत, दर्शन; 'पवाएण पवार्यं जाणेज्ज' (आचा)।

पवाय पुं [प्रपात] १ गतं, गड्ढा (णाय १, १४—पत्र १६१; दे १, २२)। २ ऊंचे स्थान से गिरता जल-समूह (सम ८४)। ३ तट-रहित निराधार पर्वत-स्थान। ४ रात में पड़नेवाली धाड़, धारा (राज)। ५ पतन (ठा २, ३)। 'दह पुं [द्रह] वह कुएड, जहाँ पर्वत पर से नदी गिरती हो (ठा २, ३—पत्र ७३)।

पवाय पुं [प्रवात] १ प्रकृत पवन (पएह २, ३)। २ वि. बहा हुआ (पवन) (संक्षि ७)। ३ पवन-रहित (वृह १)।

पवायग वि [प्रवाचक] पाठक, अव्यापक (विसे १०६२)।

पवायण न [प्रवाचन] प्रपठन, अव्ययन (सम्मत् ११७)।

पवायणा स्त्री [प्रवाचना] ऊपर देखो (विसे २८३५)।

पवायय देखो पवायग (विसे १०६२)।

पवाल पुंन [प्रवाल] १ नवांकुर, किसलय (पात्र ३४१; णाय १, १; सुपा १२६)। २ मूंगा, विद्रुम (पात्र; कप्प)। 'मंत, वंत वि [वत्] प्रवालवाला (णाय १, १; ओप)।

पवालिअ वि [प्रपालित] जो पालने लगा हो -वह (उप ७२८ टी)।

पवास पुं [प्रवास] विदेश-गमन, परदेश-यात्रा (सुपा ६५७; हेका ३७; सिरि ३५६)।

पवासि } वि [प्रवासिन्] मुसाफिर (गा  
पवासु } ६८; पड; पि ११८; हे ४; ३६५)।

पवाह सक [प्र + वाहय] बहाना, चलाना। पवाहइ (भवि)। भवि. पवाहेहित्ति (विसे २४६ टी)।

पवाह देखो पवह = प्रवाह (हे १, ६८; ८३; कुमा; णाय १, १४)।

पवाह पुं [प्रवाध] प्रकृत पीड़ा (विपा १, ६—पत्र ६०)।

पवाहण न [प्रवाहन] १ जल, पानी (भावम)। २ बहाना, बहन कराना (चैश्य ५२३)।

पवि पुं [पवि] वज्र, इन्द्र का अश्व-विरोध (उप २११ टी; सुपा ४६७; कुमा; धर्मवि ८०)।

पविअंभिअ वि [प्रविजृम्भित] प्रोक्षित, समुत्पन्न (गा ५३६ अ)।

पविआ स्त्री [दे] पत्नी का पान-पात्र (दे ६, ४; ८, ३२; पात्र)।

पविइण वि [प्रवितीर्ण] दिया हुआ (ओप)।

पविइण्ण } वि [प्रविकीर्ण] १ व्याप्त  
पविइन्न } (ओप; णाय १, १ टी—पत्र ३)। २ विसिप्त, निरस्त (णाय १, १)।

पविकत्थ सक [प्रवि + कत्थ] आत्म-श्लाघा करना। पविकत्थई (सम ५१)।

पविकसिय वि [प्रविकसित] प्रकर्ष से विकसित (राज)।

पविकिर सक [प्रवि + कृ] फेंकना। वक्र. पविकिरमाण (ठा ८)।

पविकिखअ वि [प्रवीक्षित] निरीक्षित, अवलोकित (स ७४६)।

पविकिखर देखो पविकिर; 'नाविअणणे य भंडं पविकिखरंते समुहम्मि' (सुर १३, २०६)।

पविग्व वि [दे] विस्मृत (पड)।

पविचरिय वि [प्रविचरित] गमन-द्वारा सर्वत्र व्याप्त (राय)।

पविञ्जल वि [प्रविञ्जल] ? प्रचलित (सूत्र १, ५, २, ५) । २ खिरादि से पिच्छल—व्याप्त (सूत्र १, ५, २, १६; २१) ।  
 पविट्ट वि [प्रविट्ट] घुसा हुआ (उवा; सुर ३, १३६) ।  
 पविणी सक [प्रवि + णी] दूर करना । पविरोति (भग) ।  
 पविन्त पुं [पवित्र] ? दर्भ, कुशा, तृण-विशेष (दे ६, १४) । २ वि. निर्दोष, निष्कलङ्क, शुद्ध, स्वच्छ (कुमा; भग; उत्तर ४५) ।  
 पविन्त देखो पवट्ट = प्रवृत्त (ति ६, ५७) ।  
 पविन्त सक [पवित्रय] पवित्र करना । वक्र. पविन्तयंत (सुपा ५५) ।  
 पविन्तय न [पवित्रक] अंगुठी, अंगुलीयक (खाया १, ५; श्रौप) ।  
 पविन्ताविय वि [प्रवित्त] प्रवृत्त किया हुआ (भवि) ।  
 पविन्ति देखो पवन्ति = प्रवृत्ति (सुपा २; श्रौप ६३; श्रौप) ।  
 पविन्तिणी देखो पवन्तिणी (कस) ।  
 पविन्थर अक [प्रवि + स्तृ] फैलाना । वक्र. पविन्थरमाण (पव २५५) ।  
 पविन्थर पुं [प्रविस्तर] विस्तार (उवा; सूत्र २, २, ६२) ।  
 पविन्थरिअ वि [प्रविस्तृत] विस्तार (स ७५२) ।  
 पविन्थरिह वि [प्रविस्तरिन्] विस्तारवाला (राज—पह १, ५) । देखो पविरहिय ।  
 पविन्थरि वि [प्रविस्तारिन्] फैलनेवाला (गउड) ।  
 पविद्ध देखो पविद्ध (पव २) ।  
 पविद्धंस अक [प्रवि + ध्वंस] ? विनाशान्निमुख होना । २ विनष्ट होना; 'तेण पर जोणी पविद्धंसइ; तेण परं जोणी विद्धंसइ' (ठा ३, १—पत्र १२३) ।  
 पविद्धथ वि [प्रविध्यस्त] विनष्ट (जीव ३) ।  
 पविभक्ति की [प्रविभक्ति] पृथक्-पृथक् विभाग (उत्त २, १) ।  
 पविभाग पुं [प्रविभाग] ऊपर देखो (विते १६४२) ।

पविमुक्क वि [प्रविमुक्क] परित्यक्त (सुर ३, १३६) ।  
 पविमोयण न [प्रविमोचन] परित्याग (श्रौप) ।  
 पविय वि [प्राप्त] प्राप्त, 'भुवि उवहासं पविया दुक्खाणं हुंति ते णिलया' (आरा ४४) ।  
 पवियंभिर वि [प्रविज्जन्भिर] ? उल्लसित होनेवाला । २ उत्पन्न होनेवाला (सण) ।  
 पवियक्किय न [प्रवित्किंत] विकल्प, वितर्क (उत्त २३, १४) ।  
 पवियक्कण वि [प्रविचक्षण] विशेष प्रवीण (उत्त ६, ६३) ।  
 पवियार पुं [प्रवीचार] ? काया और वचन को चेष्टा-विशेष (उप ६०२) । २ काम-क्रीडा, मैथुन (देवेन्द्र ३४७; पव २६६) ।  
 पवियारण न [प्रविचारण] संचार, 'वाउप-वियारण्ठा द्दभायं ऊणयं कुजा' (पिड ६५०) ।  
 पवियारणा की [प्रविचारणा] काम-क्रीडा, मैथुन (देवेन्द्र ३४७) ।  
 पवियास सक [प्रवि + काशय] फाड़ना, खोलना; 'पवियासइ नियवयणं' (वर्मवि १२४) ।  
 पवियासिय वि [प्रविकासित] विकसित किया हुआ; 'पवियासियकमलवणं खणं निहालेइ दिण्णाहं' (सुपा ३४) ।  
 पविरइअ वि [दे] खरित, शीघ्रता-युक्त (दे ६, २८) ।  
 पविरंज सक [भञ्ज] भंगना, तोड़ना । पविरंजइ (हे ४, १०६) ।  
 पविरंजय वि [दे] लिंगव, स्नेह-युक्त (पड) ।  
 पविरंजिअ वि [भन्न] भंगा हुआ (कुमा; दे ६, ७४) ।  
 पविरंजिअ वि [दे] ? लिंगव, स्नेह-युक्त । २ कृत-निषेध, निवारित (दे ६, ७४) ।  
 पविरल वि [प्रविरल] ? अतिविड । २ विच्छिन्न (गउड) । ३ अत्यन्त योडा, बहुत ही कम; 'परकज्जकरणारसिया दोसंति महीए पविरलनरिदा' (सुपा २४०) ।  
 पविरहिय वि [दे] विस्तारवाला (पह १, ५—पत्र ६१) । देखो पविन्थरिह ।

पविरिक्क वि [प्रविरिक्क] एकदम शून्य, विलकुल खाली (गउड ६८५) ।  
 पविरिहिय [दे] देखो पविरिहिय (पह १, ५ टी—पत्र ६२) ।  
 पविलुंप सक [प्रवि + लुप्] विलकुल नष्ट करना । वक्र. पविलुंप्पमाण (महा) ।  
 पविलुत्त वि [प्रविलुत्त] विलकुल नष्ट (उप ५६७ टी) ।  
 पविलुंप्पमाण देखो पविलुंप ।  
 पविस सक [प्र + विश] प्रवेश करना, बुझना । पविसइ (उव; महा) । भवि-पविसिस्तामि, पविसिहिइ (पि ५२६) । वक्र. पविसंत, पविसमाण (पउम ७६, १६; सुपा ४४८; विपा १, ५; कप्प) । संक. पविसित्ता, पविसित्तु, पविसिअ, पविसिऊण (कप्प; महा; अग्नि ११६; काल) । हेऊ. पविसित्तए, पवेट्टुं (कस; कप्प; पि ३०३) । क. पविसिअच्च (श्रौप ६१; सुपा ३८१) ।  
 पविसण न [प्रवेशण] प्रवेश, पैठ (पिड ३१७) ।  
 पविसु सक [प्रवि + सु] उत्पन्न करना । संक. पविसुइत्ता (सूत्र २, २, ६५) ।  
 पविस्स देखो पविस । पविस्सइ (महा) । वक्र. पविस्समाण (भवि) ।  
 पविहर सक [प्रवि + ह] विहार करना, विचरना । पविहरंति (उव) ।  
 पविहस अक [प्रवि + हस्] हसना, हास्य करना । वक्र. पविहसंत (पउम ५६, १७) ।  
 पवीइय वि [प्रवीजित] हवा के लिए चलाया हुआ (श्रौप) ।  
 पवीण वि [प्रवीण] निपुण; दल (उप ६८६ टी) ।  
 पवीणी देखो पविणी । पवीणैइ (श्रौप) ।  
 पवील सक [प्र + पीडय] पीड़ना; दमन करना । पवीलए (आचा १, ४, ४, १) ।  
 पवुच्चं देखो पवय = प्र + वच् ।  
 पवुट्ट वि [प्रवुट्ट] ? खूब बरसा हुआ, जिसने प्रभूत वृष्टि की हो वह (आचा २, ४, १, १३) । २ न. प्रभूत वृष्टि, वर्षण; 'काले पवुट्टं विअ अहिणंदिदं देवस्स तासणं' (अग्नि २२०) ।

पवुद्ध वि [प्रवृद्ध] वढ़ा हुआ, विशेष वृद्ध (दे १, ६)।  
 पवुद्धि वी [प्रवृद्धि] वढ़ाव (पंच ५, ३३)।  
 पवुत्त वि [प्रोक्त] १ जो कहने लगा हो, जिसने बोलना आरम्भ किया हो वह (पउम २७, १६; ६४, २१)। २ उक्त, कथित (धर्मवि ८२)।  
 पवुत्थ [दे] देखो पउत्थ; 'बुद्धयं पुत्तं धेतुं गामे पवुत्था' (आक २३; २५)।  
 पवुद वि [प्रवृत्] प्रकर्म से आच्छादित (प्राक १२)।  
 पवूढ वि [प्रव्यूढ] १ धारण किया हुआ (स ५११)। २ निर्गत (राज)।  
 पवेइय वि [प्रवेदित] १ निवेदित; प्रतिपादित; 'तमेव सच्चं नोसकं जं जिरोहि पवेइयं' (उप ३७४ टी; भग)। २ विज्ञात, विदित (राज)। ३ भेंट किया हुआ (उत्त १३, १३; सुख १३, १३)।  
 पवेइय वि [प्रवेपित] कम्पित (पउम ५, ७८)।  
 पवेज्ज सक [प्र + वेदय] १ विदित करता। २ भेंट करना। ३ अनुभव करना। पवेज्जए (सुअ १, ८, २४)।  
 पवेडिय वि [प्रवेधित] घिसा हुआ, वेड़ा हुआ (सुर १२, १०४)।  
 पवेय देखो पवेज्ज। पवेयति (आचा १, ६, २, १२)। हेहू. पवेइत्तए (कस)।  
 पवेयण न [प्रवेदन] १ प्रक्षरण, प्रतिपादन। २ ज्ञान, निर्णय। ३ अनुभावन (राज)।  
 पवेविय वि [प्रवेपित] प्रकम्पित (खाया १, १—पत्र ४७; उत्त २२, ३६)।  
 पवेविर वि [प्रवेपित्] कर्पनेवाला (पउम ८०, ६४)।  
 पवेस सक [प्र + वेशय] घुसाना। पवेसेइ (महा)। पवेसआमि (पि ४६०)।  
 पवेस पुं [प्रवेश] भीत की स्थूलता (ठा ४, २—पत्र २२५)।  
 पवेस पुं [प्रवेश] १ पैठ, घुसना (कुमा; गउड; प्रासु २२)। २ नाटक का एक हिस्सा (कम्प)।  
 पवेस पुं [प्रद्वेष] अधिक द्वेष (भवि)।

पवेसण पुं [प्रवेशन, °क] १ प्रवेश; पवेसणग } पैठ (पएह १, १; प्रासु ३८; पवेसणय } द्रव्य ३२)। २ विजातीय जन्मान्तर में उत्पत्ति, विजातीय योनि में प्रवेश (भग ६, ३२)।  
 पवेसि वि [प्रवेशिन] प्रवेश करनेवाला (ओप)।  
 पवेसिय वि [प्रवेशित] घुसाया हुआ (सण)।  
 पवोत्त पुं [प्रपौत्र] पौत्र का पुत्र (आक ८)।  
 पव्व पुं [पर्वन्] १ ग्रन्थि, गाँठ (ओष ४८६; जी १२; सुपा ५०७)। २ उत्सव, त्यौहार (सुपा ५०७; आ २८)। ३ पूर्णिमा और अमावास्या तिथि। ४ पूर्णिमा और अमावास्यावाला पक्ष (ठा ६—पत्र ३७०; सुज्ज १०)। ५ अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावास्या का दिन; 'अट्ठमी चउहसी पुरिएणमा य तहमावसा हवइ पव्वं। मासम्मि पव्वच्छकं तिन्नि य पव्वाइ पक्खम्मि' (धर्म ३)।  
 ६ मेखला, गिरिमेखला। ७ दंष्ट्रा-पर्वत (सुअ १, ६; १२)। ८ संख्या-विशेष (इक)।  
 वीय पुं [वीज] इक्षु-आदि वृक्ष, जिसका पर्व—ग्रन्थि—ही उत्पत्ति का कारण होता है (राज)। 'राहु पुं [राहु] राहु-विशेष, जो पूर्णिमा और अमावास्या में क्रमशः चन्द्र और सूर्य का ग्रहण करता है (सुज्ज १६)।  
 पव्वइ न [पर्वतिन्] १ गोत्र-विशेष, काश्यप गोत्र की एक शाखा। २ पुंछी, उस गोत्र में उत्पन्न (राज)। देखो पव्वपेच्छइ।  
 पव्वइ देखो पव्वइ (गा ४५५)।  
 पव्वइअ वि [प्रप्रजित] १ दीक्षित, संन्यस्त (ओप; दसनि २—गाथा १६४)। २ गत, प्राप्त; 'अगाराओ अणगारियं पव्वइया' (ओप; सम; कम्प)। ३ न. दीक्षा, संन्यास (वव १)।  
 पव्वइद पुं [पर्वतेन्द्र] मेरु पर्वत (सुज्ज ५ टी)।  
 पव्वइग देखो पव्वइअ (उप मृ ३३५)।  
 वी. गा (उप मृ ५४)।  
 पव्वइसेहू न [दे] बाल-मय कंडक—तावीज (दे ६, ३१)।

पव्वइ वी [पार्वती] गौरी, शिव-पत्नी (पाम)।  
 पव्वंग पुं [पर्वङ्ग] संख्या-विशेष (इक)।  
 पव्वक पुं [पर्वक] १ वाद्य-विशेष (पएह पव्वग } २, ५—पत्र १४६)। २ ईख जैसी ग्रन्थिवाली वनस्पति (पएण १)। ३ तृण-विशेष (निचू १)।  
 पव्वग वि [पार्वक] पर्व—ग्रन्थि—गाँठ का बना हुआ (आचा २, २, ३, २०)।  
 पव्वज्ज पुं [दे] १ नल। २ शर, बाण। ३ बाल-मृग (दे ६, ६६)।  
 पव्वज्जा वी [प्रव्रज्या] १ गमन, गति। २ दीक्षा, संन्यास (ठा ३, २; ४, ४; प्रासु १६७)।  
 पव्वणी वी [पर्वणी] कार्तिकी आदि पर्व-तिथि (खाया १, १—पत्र ५३)।  
 पव्वपेच्छइ न [पर्वप्रेक्षकिन्] देखो पव्वइ (ठा ७—पत्र ३६०)।  
 पव्वय सक [प्र + व्रज्] १ जाना, गति करना। २ दीक्षा लेना, संन्यास लेना। पव्वयइ (महा)। भवि. पव्वइस्सामो, पव्वइहिति (ओप)। वक. पव्वयंत, पव्वयमाथा (सुर १, १२३; ठा ३, १)। हेहू. पव्वइत्तए, पव्वइउं (ओप; भग; सुपा २०६)।  
 पव्वय देखो पव्वग (पएण १—पत्र ३३)।  
 पव्वय देखो पव्वइअ; 'अगारमावसंतावि अरएणा वावि पव्वया' (सुअ १, १, १, १६)।  
 पव्वय पुं [पर्वत, °क] १ गिरि, पहाड़ पव्वयय } (ठा ३, ४; प्रासु १५४; उवा), 'पव्वयाणि वयाणि य' (दस ७, २६, ३०)।  
 २ पुं. द्वितीय वासुदेव का पूर्व-भवीय नाम (सम १५३; पउम २०, १७१)। ३ एक ब्राह्मण-पुत्र का नाम (पउम ११, ६)। ४ एक राजा (भवि)। ५ एक राज-कुमार (उप ६३७)। 'राय पुं [राज] मेरु पर्वत (सुज्ज ५)। 'विट्ठुग्ग पुं [विट्ठुग्ग] पर्वतीय देश, पहाड़वाला प्रदेश (भग)।  
 पव्वयगिहं न [पर्वतगृह] पर्वत की गुफा (आचा ३, ३, ३, १)।  
 पव्ववह सक [प्र + वथथ] पीड़ना, दुःख देना। पव्वहेजा (सुअ १, १, ४, ६)।

कवक. पञ्चहिज्जमाण (साया १, १६—  
पत्र १६६)।  
पञ्चहणा लो [पञ्चयथना] व्यया, पीडा  
(श्रौप)।  
पञ्चहिय वि [पञ्चयथित] अति दुःखित  
(आचा १, २, ६, १)।  
पञ्चा लो [पचा] लोकपालों की एक ब्राह्म  
परिपद् (ठा ३, २—पत्र १२७)।  
पञ्चाअंत देखो पञ्चाय = म्लै।  
पञ्चाइअ वि [पञ्चाजित] १ जिसको दीक्षा  
दी गई हो वह (सुपा ५६६)। २ न. दीक्षा  
देना (राज)।  
पञ्चाइअ वि [म्लान] विच्छाद्य, शुष्क (कुमा  
६, १२)।  
पञ्चाइआ लो [पञ्चाजिका] परिव्राजिका,  
संन्यासिनी (महा)।  
पञ्चाडिअ देखो पञ्चालिअ = प्लावित (से  
५, ४१)।  
पञ्चाण वि [म्लान] शुष्क, सूखा (श्रीघ  
४८८)।  
पञ्चाय देखो पचाय = प्र + वा। पञ्चायइ  
(प्राक ७६)।  
पञ्चाय सक [प्र + व्राजय] दीक्षित करना  
(सुपा ५६६)।  
पञ्चाय अक [म्लै] सूखना। पञ्चायइ (हे ४,  
१८)। वक. पञ्चाअंत (से ७, ६७)।  
पञ्चाय वि [म्लान, प्रवाण] शुष्क, सूखा  
हुआ (पाम्र; श्रीघ ३६३; स २०३; से ४८;  
६, ६३; पिड ४४)।  
पञ्चाय पुं [प्रवात] प्रकृष्ट पवन (गा ६२३)।  
पञ्चाल सक [छादय] ढकना, आच्छादन  
करना। पञ्चालइ (हे ४, २१)।  
पञ्चाल सक [प्लावय] खूब भिजाना,  
तरावीर करना। पञ्चालइ (हे ४, ४१)।  
पञ्चालण न [प्लावन] तरावीर करना (से  
६, १५)।  
पञ्चालिअ वि [प्लावित] जल-व्याप्त, सरा-  
वीर किया हुआ (पाम्र; कुमा; से ६, १०)।  
पञ्चालिअ वि [छादित] ढका हुआ (कुमा)।  
पञ्चाव सक [प्र + व्राजय] दीक्षित करना,  
संन्यास देना। पञ्चावेइ (भग)। संक. पञ्चा-

वेजण (पंचव २)। हेक. पञ्चावित्तए,  
पञ्चावेत्तए, पञ्चावेडं (ठा २, १; कस;  
पंचना)।  
पञ्चावण न [प्रव्राजन] दीक्षा देना (उव;  
श्रीघ ४४२ टी)।  
पञ्चावण न [दे] प्रयोजन (पिड ५१)।  
पञ्चावणा लो [प्रव्राजना] दीक्षा देना (श्रीघ  
४४३; पव २५; सूत्रनि १२७)।  
पञ्चाविय वि [प्रव्राजित] दीक्षित, साधु  
वनाया हुआ (साया १, १—पत्र ६०)।  
पञ्चाह सक [प्र + वाहय] बहाना, प्रवाह  
में डालना। वक. पञ्चाहमाण (भग ५, ४)।  
पञ्चियद्ध वि [दे] प्रेरित (दे ६, ११)।  
पञ्चियद्ध वि [प्रवृद्ध] महान्, बड़ा (से १४,  
५१)।  
पञ्चियद्ध न [प्रविद्ध] गुरु-वन्दन का एक दोष,  
वन्दन को समाप्त किये बिना ही भागना  
(पव २)।  
पञ्चीसग न [दे. पञ्चीसग] वाच-विशेष  
(परह १, ४—पत्र ६८)।  
पसइ लो [प्रसृति] १ ताप-विशेष, दोषरहित—  
पसर का एक परिमाण (तंदु २६)। २ पूर्ण  
अञ्जलि, दो हस्त-तल—अञ्जुरी मिला कर  
भरी हुई चीज (कुप्र ३७४)।  
पसंग पुंन [प्रसङ्ग] १ परिचय, उपलक्ष (स  
३०५)। २ संगति, संबन्ध: 'लोए पलोवणं  
पिव. पलालपूलपसंगेण' (ठा ४, ४; कुप्र  
२६);  
'वरं विट्ठिविसो सप्पो वरं हालाहलं विसं।  
हीणायारागोयत्ववयणं पसंगं खु णो भद्दं'  
(संबोध ३६)। ३ आपत्ति, अनिष्ट-प्राप्ति  
(स १७४)। ४ मैथुन, काम-क्रीडा (परह १,  
४)। ५ आसक्ति। ६ प्रस्ताव, अधिकार  
(गठड; भवि; पंचा ६, २६)।  
पसंगि वि [प्रसङ्गि] प्रसंग करनेवाला,  
आसक्त: 'सूयप्संगी' (महा; साया १, २)।  
पसंज अक [प्र + सज्ज] १ आसक्ति करना।  
२ आपत्ति होना, अनिष्ट-प्राप्ति होना। पसजइ  
(उव); 'अणिच्चे जीयलोणम्मि किं हिसाए  
पसजसि' (उत्त १८, ११; १२)। पसज्जेजा  
(विसे २६६)।  
पसंडि न [दे] क्लक, सुवर्ण (दे ६, १०)।

पसंत वि [प्रशान्त] १ प्रकृष्ट शान्त, शम-  
प्राप्त (कप; स ४०३; कुप्र)। २ साहित्य-  
शास्त्र-प्रसिद्ध रस-विशेष, शान्त रस (अणु)।  
पसंति लो [प्रशान्ति] नाश, विनाश; 'सव्व-  
दुक्खप्पसंतोणं' (प्रनि ३)।  
पसंधण न [प्रसंधान] सतत प्रवर्तन (पिड  
४६०)।  
पसंस सक [प्रशंस] श्लाघा करना। पसं-  
सइ (महा; भवि)। वक. पसंसंत, पसंस-  
माण (पउम २८, १५; २२, ६८)। कवक.  
पसंसिज्जमाण (वसु)। संक. पसंसिज्जण  
(महा)। क. पसंसणिज्ज, पसस्स, पसं-  
सियञ्च (सुपा ४७; ६४५; सुर १, २१६;  
पउम ७५, ८), देखो पसंस।  
पसंस वि [प्रशस्य] १ प्रशंसा-योग्य। २  
पुं. लोभ (सूत्र १, २, २, २६)।  
पसंसण न [प्रशंसन] प्रशंसा, श्लाघा (उप  
१४२ टी; सुपा २०६; उप पं १७)।  
पसंसय वि [प्रशंसक] प्रशंसा करनेवाला  
(आ ६; भवि)।  
पसंसा लो [प्रशंसा] श्लाघा, स्तुति, वणं  
(प्रासु १६७; कुमा)।  
पसंसिअ वि [प्रशंसित] श्लाघित (उत्त १४,  
३८)।  
पसज्जं देखो पसंज।  
पसज्जं अ [प्रसह्य] १ बुले तौर से, प्रकट  
पसज्जं) रीति से (सूत्र १, २, २, १६)।  
२ हठात्, बलात्कार से (से ३१)।  
पसज्जकेय न [प्रसह्यचेतस्] धर्म-निरपेक्ष  
चित्त, कदाग्रही मन (दसच्च १, १४)।  
पसड वि [प्रसह्य] अनेक दिन रखकर बुला  
किया हुआ (दस ५, १, ७२)।  
पसड वि [प्रशड] अत्यन्त शठ (सूत्र २,  
४, ३)।  
पसडं देखो पसज्जं (दस ५, १, ७२)।  
पसडिल वि [प्रशिथिल] विशेष डीला (हे  
१, ८६)।  
पसण्ण वि [प्रसन्न] १ बुश, स्वस्थ (से ५,  
४१; गा ६६५)। २ स्वच्छ, निर्मल (श्रीघ;  
श्रीघ ३४५)। ३ चंद पुं [चन्द्र] भगवान्  
महावीर के समय का एक राजपि: (उव;  
पडि)।

पसण्णा वी [प्रसन्ना] मदिरा, दाह (णायी १, १६; विपा १, २)।

पसत्त वि [प्रसक्त] १ विपका हुआ (गडड ५२)। २ आसक्त (गडड ५३१; उव)। ३ आपत्ति-ग्रस्त, अनिष्ट-प्राप्ति के दोष से युक्त (विसे १८५६)।

पसत्ति वी [प्रसक्ति] १ आसक्ति, अमिष्वङ्ग (उव १३१)। २ आपत्ति-दोष (अचक ११६)।

पसत्थि वि [प्रशस्त] १ प्रशंसनीय, श्लाघनीय। २ श्रेष्ठ, अच्छा (हे २, ४५; कुमा)।

पसत्थि वी [प्रशस्ति] वंशोत्कीर्तन, वंश-वर्णन (गडड; सम्मत ८३)।

पसत्थु पुं [प्रशास्त] १ लेलाचार्य, गणित का अध्यापक (ठा ३, १)। २ धर्म-शास्त्र का पाठक (ठा ३, १; औप)। ३ मन्त्री, अमात्य (सूत्र २, १, १३)।

पसन्न देखो पसण्ण (महा; भवि; सुपा ६१४)।

पसन्ना देखो पसण्णा (पात्र; पठम १०२, १२२; सुव २, २६)।

पसप्प पुं [प्रसर्प] विस्तार, फैलाव (द्रव्य १०)।

पसप्पगं वि [प्रसर्पक] १ प्रकर्ष से जाने-वाला, मुसाफिरी करनेवाला। २ विस्तार को प्राप्त करनेवाला (ठा ४, ४—पत्र २६४)।

पसम अक [प्र + शम्] अच्छी तरह शान्त होना। पसमति (आक १६)।

पसम पुं [प्रशम] १ प्रशान्ति, शान्ति (कुमा)। २ लगातार दो उपवास (संवाव ५८)।

पसम पुं [प्रश्रम] विशेष मेहनत—खेद (आव ४)।

पसमण न [प्रशमन] १ प्रकृत शमन (पिड ६६३; सुर १, २४६)। २ वि. प्रशान्त करने-वाला (स ६६५)। वी. °णी (कुमा)।

पसमाविअ वि [प्रशमित] प्रशान्त किया हुआ (स ६२)।

पसमिक्ख सक [प्रसम् + ईक्ष] प्रकर्ष से देखना। संक. पसमिक्ख (उत्त १४, ११)।

पसमिण वि [प्रशमिन्] प्रशान्त करनेवाला, नाश करनेवाला; 'पावन्ति, पावपसमिण पास-ल्लिण सुह प्पभावेण' (एमि १७)।

पसम्म देखो पसम = प्र + शम्। पसम्मइ (गडड)। वक्र. पसम्मंत (से १०, २२; गडड)।

पसय पुं [दे] १ मृग-विशेष (दे ६, ४; पएह १, १; भवि; सण; महा)। २ मृग-शिशु (विपा १, ४)।

पसय वि [प्रसृत] फैला हुआ, 'पसयच्छि' (वत्ता ११२; १४४)। देखो पसिअ = प्रसृत।

पसर अक [प्र + स] फैलना। पसरइ (पि ४७७; भवि)। वक्र. पसरंत (सुर १, ८६; भवि)।

पसर पुं [प्रसर] विस्तार, फैलाव (हे ४, १५७; कुमा)।

पसरण न [प्रसरण] ऊपर देखो (कप्पू)। पसरिअ वि [प्रसृत] फैला हुआ, विस्तृत (औप; गा ४; भवि; णायी १, १)।

पसरेह पुं [दे] किजल्क (दे ६, १३)।

पसल्लिअ वि [दे] प्रेरित (पड्)।

पसव सक [प्र + सु] जन्म देना, उत्पन्न करना। पसवइ (हे ४, २३३)। पसवन्ति (उव)। वक्र. पसवमाण (सुपा ४३४)।

पसव (अप) सक [प्र + विश] प्रवेश करना। पसवइ (प्राक ११९)।

पसव पुं [प्रसव] १ जन्म, उत्पत्ति (कुमा)। २ न. पुष्प, फूल; 'कुसुमं पसवं पसुअं च' (पात्र), 'पुष्पाणि अ कुसुमाणि अ कुल्लाणि तहेव होंति पसवाणि' (दसनि १, ३६)।

पसव [दे] देखो पसय। 'पसवा हवन्ति ए' (पठम ११, ७७)। 'नाह पुं [°नाथ] मृग-राज, सिंह (स ६५७)। 'राय पुं [°राज] सिंह (स ६५७)।

पसवडक न [दे] विलोकन (दे ६, ३०)।

पसवण न [प्रसवण] प्रसूति, जन्म-दान (मग; उव ७४४; सुर ६, २४८)।

पसवि वि [प्रसविन्] जन्म देनेवाला (नाट—शकु ७४)।

पसविय वि [प्रसृत] जो जन्म देने लगा हो, जिसने जन्म दिया हो वक्र; 'सयमेव पसविया

हं महाकिलेसेण नरनाह' (सुर १०, २३०; सुपा ३६)। देखो पसुअ = प्रसृत।

पसविर वि [प्रसवित्] जन्म देनेवाला (नाट)।

पसस्स देखो पसंस।

पसस्स वि [प्रशस्य] प्रभूत शस्यवाला (सुपा ६४५)।

पसाइअ वि [प्रसादित] १ प्रसन्न किया हुआ (स ३८६; ५७६)। २ प्रसन्न होने के कारण दिया हुआ, 'अंगदिलग्गमत्तेसे पसाइयं कडयवत्वाइ' (सुर १, १६३)।

पसाइआ वी [दे] मिल्ल के सिर पर का पण-मुट, मिल्लों की पगड़ी (दे ६, २)।

पसाइयव्व देखो पसाय = प्र + सादय्।

पसाम वि [प्रशाम्] शान्त होनेवाला (पड्)।

पसाय सक [प्र + सादय्] प्रसन्न करना, खुश करना। पसाअन्ति, पसाएसि (गा ६१; सिक्का ६१)। वक्र. पसाअमाण (गा ७४५)। हेक. पसाइउं, पसाएउं (महा; गा ५२४)। क. पसाइयव्व (सुपा ३६५)।

पसाय पुं [प्रसाद] १ प्रसन्न, प्रसन्नता, खुशी; 'जणमणपसायजणणो' (वसु)। २ कृपा, मेहरबानी (कुमा)। ३ प्रणय (गा ७१)।

पसायण न [प्रसादन] प्रसन्न करना, 'देव-पसायणपहाणमणो' (कुप्र ५; सुपा ७, महा)।

पसार सक [प्र + सारय्] पसारना, फैलाना। पसारेइ (महा)। वक्र. पसारेमाण (णायी १, १; आचा)। संक. पसारिअ (नाट—मृच्छ २५५)।

पसार पुं [प्रसार] विस्तार, फैलाव (कप्पू)।

पसारण न [प्रसारण] ऊपर देखो (सुपा ५८३)।

पसारिअ वि [प्रसारित] १ फैलाया हुआ (सण; नाट—वेणी २३)। २ न. प्रसारण (सन्मत १३३; दस ४, ३)।

पसास सक [प्र + शासय्] १ शासन करना, हुकूमत करना। २ शिक्षा देना। ३ पालन करना। वक्र. 'रज्जं पसासेमाणे विहरइ' (णायी १, १ टी—पत्र ६; १, १४—पत्र १८६; औप; महा)।

पसाह सक [प्र + साधय्] १ बस में करना। २ सिद्ध करना। पसाहेइ (नाटः भवि)। वक्र. पसाहेमाण (श्रौप)।

पसाहग वि [प्रसाधक] साधक, सिद्ध करनेवाला (धर्मसं २६)। तम वि [तंम] १ उच्छृष्ट साधक। २ न. व्याकरण-प्रसिद्ध कारक-विशेष; करण-कारक (वित्तं २११२)। देखो पसाहय।

पसाहण न [प्रसाधन] १ सिद्ध करना, साधना; 'विज्जापसाहणुज्जयविज्जाहर-संनिद्धएगंतो' (सुर ३, १२)। २ उच्छृष्ट साधन: 'सन्वृतम माणुसत्तं दुल्लहं भवसमुद्दे पसाहणं नेत्राणस्स न निउंजेति धम्मं' (स ७४४)। ३ अलंकार, भूषण (खाया १, ३; से ३, ४४)। ४ भूषण आदि की सजावट; भूषणपसाहणाउंवेरेहि' (वज्जा ११४; सुपा ६६)।

पसाहय देखो पसाहग (काल)। २ सजाने-वाला (भग ११, ११)।

पसाहा बी [प्रशाखा] शाखा की शाखा, छोटी शाखा (खाया १, १; श्रौप महा)।

पसाहविय वि [प्रसाधित] विभूषित कराया गया, सजवाया हुआ (भवि)।

पसाहि वि [प्रसाधिन्] सिद्ध करनेवाला, 'अभ्युदयपसाहिणी' (संबोध ८; ५४)।

पसाहिअ वि [प्रसाधित] अलंकरण किया हुआ, सजाया हुआ (से ४, ६१; पात्र)।

पसाहिल्ल वि [प्रशाखिन्] प्रशाखा-युक्त (सुर ८, १०८)।

पसिअ सक [प्र + सद] प्रसन्न होना। पसिअ (गा ३८४; ४६६; हे १, १०१)। पसियइ (सण)। संक्र. पसिऊण, पसिऊणं (सण; सुपा ७)।

पसिअ वि [प्रसूत] फैला हुआ, विस्तीर्ण; 'पसिअच्छि!' (गा ६२०; ६२३)।

पसिअ न [दे] पुष्प-फल, सुपासे (दे ६, ६)।

पसिच सक [प्र + सिच्] सेचन करना। वक्र. पसिचमाण (सुर १२, १७२)।

पसिडि (दे) देखो पसंडि (पात्र)।

पसिअअ वि [प्रशिक्षक] सीखनेवाला (गा ६२६ अ)।

पसिज्जण न [प्रसदन] प्रसन्न होना; 'अत्य-कूत्सणं लणपसिज्जणं अलिअवअणणिवंधो' (गा ६७५)।

पसिडिल देखो पसडिल (हे १, ८६; गा १३३; गज्ज)।

पसिण पुं [प्रश्न] १ पृच्छा, प्रश्न (सुपा ११, ४५३)। २ दर्पण आदि में देवता का आह्वान, मन्त्रविद्या-विशेष (सम १२३; वृह १)। ३ विज्ञा बी [विद्या] मन्त्रविद्या-विशेष (ठा १०)। ४ पसिण न [प्रश्न] मन्त्रविद्या के बल से स्वप्न आदि में देवता के आह्वान द्वारा जाना हुआ शुभाशुभ फल का कथन (पव २; वृह १)।

पसिणिय वि [प्रश्नित] पृच्छा हुआ (सुपा १६; ६२५)।

पसिद्ध वि [प्रसिद्ध] १ विख्यात, विद्युत (महा)। २ प्रकर्म से मुक्ति को प्राप्त; मुक्त (सिरि ५६५)।

पसिद्धि बी [प्रसिद्धि] १ ब्यापि (हे १, ४४)। २ शंका का समाधान, आक्षेप का परिहार (अणु; चेइय ४६)।

पसिस्स देखो पसीस (वित्तं १४)।

पसीअ देखो पसिअ = प्र + सद। पसीयइ, पसीयअ (कुप्र १)। संक्र. पसीऊण (सण)।

पसीस पुं [प्रशिष्य] शिष्य का शिष्य (पठम ४, ८६)।

पसु पुं [पशु] १ जन्तु-विशेष, सौंग पूँछवाला प्राणी, चतुष्पाद प्राणि-मात्र (कुमा; श्रौप)। २ अज, बकरा (अणु)। ३ भूय वि [भूत] पशु-तुल्य (सूय १, ४, २)। ४ मेइ पुं [मेय] जिसमें पशु का भोग दिया जाता हो वह यज्ञ (पठम ११, १२)। ५ वइ पुं [पति] महादेव, शिव (गा १; सुपा ३१)।

पसुत्त वि [प्रसुप्त] सोया हुआ (हे १, ४४; प्राप्र; खाया १, १६)।

पसुत्ति बी [प्रसुप्ति] कुछ रोग विशेष, नखादि-विदारण होने पर भी अचेतनता (राज)। देखो पसुइ।

पसुव (अप) देखो पसु (भवि)।

पसुइत्त पुं [दे] वृक, पेड़ (दे ६, २६)।

पसु सक [प्र + सू] जन्म देना, प्रसव करना। वक्र. पसुअमाण (गा १२३)। संक्र. पसुइत्ता (राज)।

पसु वि [प्रसू] प्रसव-कर्ता, जन्म-दाता (मोह २६)।

पसुअ न [दे] पुष्प, फूल (दे ६, ६; पात्र; भवि)।

पसुअ वि [प्रसूत] १ उत्पन्न, जो पैदा हुआ हो (खाया १, ७; उव; प्राप् १५६)। २ देखो पसविय (महा)।

पसुअण न [प्रसवण] जन्म-दान (सुपा ४०३)।

पसुइ बी [प्रसूति] १ प्रसव, जन्म, उत्पत्ति (पठम २१, ३४; प्राप् १२८)। २ एक प्रकार का कुछ रोग, नखादिसे विदारण करने पर भी दुःख का असंवेदन, चमड़ी का मर जाना (पिड ६००)। ३ रोग पुं [रोग] रोग-विशेष (सम्मत् ५८)।

पसुइय पुं [प्रसूतिक] वातरोग-विशेष (सिरि ११७)।

पसुण न [प्रसून] फूल, पुष्प (कुमा; सण)।

पसेअ पुं [प्रस्वेद] पसीना (दे ६, २)।

पसेडि बी [प्रश्रेणि] अवान्तर श्रेणि—पंक्ति (पि ६६; राय)।

पसेण पुं [प्रसेन] भगवान् पारशनाय के प्रथम श्रावक का नाम (विचार ३७८)।

पसेणइ पुं [प्रसेनजित्] १ कुलकर-गुरुप-विशेष (पठम ३, ५५; सम १५०)। २ यदुवंश के राजा अन्विकवृष्णि का एक पुत्र (अंत ३)।

पसेणि बी [प्रश्रेणि] अवान्तर जाति, 'अट्टारसरीणपसेणीओ सदावेइ' (खाया १, १—पत्र ३७)।

पसेयग देखो पसेवय (राज)।

पसेव सक [प्र + सेव्] विशेष सेवा करना। वक्र. पसेवमाण (श्रु ५५)।

पसेवय पुं [प्रसेवक] कोयला, बैला; 'पहावि-यपसेवओव उरंसि लंबति दोवि तस्स यणया' (उवा)।

पसेविआ बी [प्रसेविका] बैली, कोयली (दे ५, २५)।

पत्स सक [ दृश ] देखना । पत्सइ (पड् ; प्राक् ७१) । वक्र. पत्समाण (आचा; औप; वसु; विपा १, १) । कृ. पत्स (ता ४, ३) । पत्सं (शौ) देखो पास = पार्श्व (अभि १८६; अवि २६; स्वप्न ३६) ।

पत्स देखो पत्स = दृश ।

पत्सओहर वि [ पश्यतोहर ] देखते हुए चोरी करनेवाला, सुनार, उचका; नरु एसी पत्सओहरो तेषो (उप ७२८ टी) ।

परिस वि [ दर्शिन ] देखनेवाला (पण्य ३०) ।

पत्सेय देखो पसेअ (सुख २, ८) ।

पह वि [ प्रह ] १ नञ् । २ विनीत । ३ आसक्त (प्राक् २४) ।

पह पुं [ पथिन ] मार्ग, रास्ता (हे १, ८८; पात्र; कुमा; आ २८; वित् १०५२; कप्य; औप) । देशय वि [ देशक ] मार्ग-देशक (पउम ६८, १७) ।

पहएह पुं [ दे ] अपूप, पूया; खाद्य-विशेष (दे ६, १८) ।

पहकर देखो पभंकर (उत्त २३; ७६; सुख २३, ७३; इक) ।

पहंकरा देखो पभंकरा (इक) ।

पहंजण पुं [ प्रभञ्जन ] १ वायु, पवन (पात्र) । २ देव-जाति-विशेष, भवनपति देवों की एक अवान्तर जाति (सुपा ४०) । ३ एक राजा (भवि) ।

पहंकर [ दे ] देखो पहयर (राया १, १; कप्य; औप; उप पृ ४७; विपा १, १; राय; भग ६, ३३) ।

पहट्ट वि [ दे ] १ दृस, उद्वत (दे ६, ६; पड्) । २ अचिरतर दृष्ट, छोड़े ही समय के पूर्व देखा हुआ (पड्) ।

पहट्ट वि [ प्रहृष्ट ] आनन्दित, हर्ष-प्राप्त (औप; भग) ।

पहण सक [ प्र + हन् ] मार डालना । पहणइ, पहणे (महा) उत्त १८, ४६) । कर्म, पहणजइ (महा) । वक्र. पहणंत (पउम १०५, ६५) । कवक्र. पहम्मंत, पहम्ममाण (पि ५४०; सुर २, १४) । हेक. पहणितं, पहणेतं (कुप्र २५; महा) । पहण न [ दि ] कुल; वंश (दे ६, ५) ।

पहणि व्री [ दे ] संयुवागत का निरोध, सामने आए हुए का अटकाव (दे ६, ५) ।

पहणिय देखो पहय = प्रहत (सुपा ४) ।

पहत्य पुं [ प्रहस्त ] रावण का मामा (से १२, ५५) ।

पहद वि [ दे ] सदा दृष्ट (दे ६, १०) ।

पहम्म सक [ प्र + हम्म ] प्रकप से गति करना । पहम्मइ (हे ४, १६२) ।

पहम्म न [ दे ] १ सुर-खात, देव-कुण्ड (दे ६, ११) । २ खात-जल, कुण्ड । ३ विवर, छिद्र (से ६, ४३) ।

पहम्मंत } देखो पहण = प्र + हन् ।  
पहम्ममाण }

पहय वि [ प्रहत ] १ दृष्ट, घिसा हुआ (से १, ५८; वृह १) । २ मार डाला गया, निहत (महा) ।

पहय वि [ प्रहत ] जिस पर प्रहार किया गया हो वह, 'पहया अहिर्मतियजलेण' (महा) ।

पहयर पुं [ दे ] निकर, समूह, दूय (दे ६, १५; जय १३; पात्र) ।

पहर सक [ प्र + ह ] प्रहार करना । पहरइ (उव) । वक्र. पहरंत (महा) । संक्र. पहरिऊण (महा) । हेक. पहरितं (महा) ।

पहर पुं [ प्रहार ] १ मार, प्रहार (हे १, ६८; पड्, प्राप्र; संधि २) । २ जहाँ पर प्रहार किया हो वह स्थान (से २, ४) ।

पहर पुं [ प्रहर ] तीन घंटे का समय (गा २८; ३१; पात्र) ।

पहरण न [ प्रहरण ] १ अन्न, आयुध (आचा; औप; विपा १, १; गउड) । २ प्रहार-क्रिया (से ३, ३८) ।

पहराइया देखो पहाराइया (पण्य १—पत्र ६४) ।

पहराय पुं [ प्रभराज ] भरतक्षेत्र का छत्रवा प्रतिवासुदेव (सम १५४) ।

पहरिअ वि [ प्रहत ] १ प्रहार करने के लिए उद्यत (सुर ६, १२६) । २ जिस पर प्रहार किया गया हो वह (भवि) ।

पहरिस पुं [ प्रहर्ष ] आनन्द, बुशी; आमोश्रो पहरिसो जोसो (पात्र; सुर ३, ४०) ।

पहलादिद (शौ) वि [ प्रह्लादित ] आनन्दित (स्वप्न १०६) ।

पहल अक [ वूर्ण ] धूनना, काँपना, डोलना; हिलना । पहलइ (हे ४, ११७; पड्) । वक्र. पहलंत (सुर १, ६६) ।

पहलिर वि [ प्रवूर्णित ] धूमनेवाला, डोलता (कुमा; सुपा २०४) ।

पहय अक [ प्र + भू ] १ उत्पन्न होना । २ समर्थ होना । पहवइ (पंचा १०, १०; स ७०; संधि ३६) । भवि. पहवित्सं (पि ५२१) । वक्र. पहवंत (नाट—नालवि ७२) ।

पहव पुं [ प्रभव ] उत्पत्ति-स्थान (अभि ४१) ।

पहव देखो पहाव = प्रभाव (स ६३७) ।

पहव देखो पह = प्रह (विसे ३००८) ।

पहव पुं [ प्रभव ] एक जैन महर्षि (कुमा) ।

पहविय वि [ प्रभूत ] जो समर्थ हुआ हो, 'भणिकुंडलाणुभावा सत्यं नो पहवियं नरिदस्स' (सुपा ६१५) ।

पहस अक [ प्र + हस् ] १ हसना । २ उपहास करना । पहसइ (भवि; सण) । वक्र. पहसंत (सण) ।

पहसण न [ प्रहसन ] १ उपहास, परिहास । २ नाटक का एक भेद; हास्य-रस प्रवान नाटक, रूपक-विशेष; 'पहसणप्पायं कामसत्य-वयणं' (स ७१३; १७७; हास्य ११६) ।

पहसिय वि [ प्रहसित ] १ जो हसने लगा हो (मग) । २ जिसका उपहास किया हो वह (भवि) । ३ न. हास्य (वृह १) । ४ पुं-पवनजय का एक विद्याधर-मित्र (पउम १५, ५६) ।

पहा सक [ प्र + हा ] १ त्याग करना । २ अक. कम होना, क्षीण होना; 'पहेव लोह' (उत्त ४, १२; पि ५६६) । वक्र. पहिजमाण, पहिजमाण (भग; राज) । संक्र. पहाय, पहिऊण (आचा १, ६; १, १; वव ३) ।

पहा व्री [ प्रथा ] १ रीति, व्यवहार । २ व्याप्ति, प्रसिद्धि (पड्) ।

पहा व्री [ प्रभा ] कान्ति, तेज, आलोक, दीप्ति (औप; पात्र; सुर २, २३५; कुमा; चेइय ५१४) । मंडल देखो भामंडल (पउम ३७, ३२) । यर पुं [ कर ] १ सूर्य, रवि । २ रामचन्द्र के भाई भरत से साय-दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पउम ८५, ५) । वई व्री



[पवती] आठवें वासुदेव की पटरानी (पउम २०, १८७)।

पहाड सक [प्र + ध्राटय्] इवर उवर भमाना, घुमाना। पहाडेंति (सूत्रनि ७० टी)।

पहाण वि [प्रधान] १ नायक, मुखिया, मुख्य; 'अवगन्तइ सव्वेवि हु पुरप्पहाणेवि' (सुपा ३०८), 'तत्त्वत्वि वण्णपहाणो सेट्ठी वेत्तमणनामथो' (सुपा ६१७)। २ उत्तम, प्ररास्त, श्रेष्ठ, शोभन (सुर १, ४८; महा; कुमा; पंचा ६, १२)। ३ क्षीन. प्रकृति—सत्त्व, रज और तमोगुण की साम्यावस्था; 'इसरेण कडे लोए पहाणाइ तहावरे' (सूत्र १, १, ३, ६)। ४ पुं. सचिव, मन्त्री (भवि)।

पहाण पुं [पापाण] पत्थर (चउप्पन्न०)।

पहाण न [प्रहाण] अपगम, विनाश (वमसं ८७५)।

पहाणि स्त्री [प्रहाणि] ऊपर देखो (उत्त ३, ७; उप ६८६ टी)।

पहाम सक [प्र + भ्रमय्] फिराना, घुमाना। कवक. पहामिज्जंत (से ७, ६६)।

पहाय देखो पहा = प्र + हा।

पहाय न [प्रभात] १ प्रातःकाल, सवेरा (गउड; सुपा ३६; ६०२)। २ वि. प्रभाव-युक्त (से ६, ४४)।

पहाय देखो पहाव = प्रभाव (हे ४, ३४१; हास्य १३२; भवि)।

पहाया देखो वाहाया (अनु)।

पहार सक [प्र + धारय्] १ चिन्तन करना, विचार करना। २ निश्चय करना। भूका. पहारेत्थ, पहारेत्था, पहारिसु (सूत्र २, ७, ३६; औप; पि ५१७; सूत्र २, १, २०)। वक. पहारेमाण (सूत्र २, ४, ४)।

पहार देखो पहर = प्रहार (पाअ; हे १, ६८)।

पहाराइया स्त्री [प्रहारातिगा] लिपि-विशेष (सम ३५)।

पहारि वि [प्रहारिन्] प्रहार करनेवाला (सुपा २१५; प्रासु ६८)।

पहारिय वि [प्रहारित] जिस पर प्रहार किया गया हो वह (स ५६८)।

पहारिय वि [प्रधारित] विकल्पित, चिन्तित (राज)।

पहारेत्तु वि [प्रधारयित्] चिन्तन करनेवाला, 'अहाकम्मे अणवज्जेति मणं पहारेत्ता भवति' (मग ५, ६)।

पहाव सक [प्र + भावय्] प्रभाव-युक्त करना, गौरवित करना। पहावइ (सण)। संक. पहाविऊण (सण)।

पहाव (अप) अक [प्र + भू] समयं होना। पहावइ (भवि)।

पहाव पुं [प्रभाव] १ शक्ति, सामर्थ्य; 'तुमं च तेतलियुत्तस्स पहावेण' (णाया १, १४; अमि ३८)। २ कोप और दण्ड का तेज। ३ माहात्म्य; 'तायपहावयो चव मे अविग्घं भविस्सइ ति' (स २६८, गउड)।

पहावणा देखो पभावणा (कुप्र २८४)।

पहाविअ वि [प्रधावित] दौड़ा हुआ (स ५८४; गा ५३५; गउड)।

पहाविर वि [प्रधावित्] दौड़नेवाला (वजा ६२; गा २०२)।

पहास सक [प्र + भाप्] बोलना। पहासई (सुख ४; ६); 'नाऊण चुन्नियं तं पहिट्ठहियया पहासई पावा' (महा)।

पहास अक [प्र + भास्] चमकना, प्रकाशना। वक. पहासंत (सार्थ ५६)।

पहास पुं [प्रहास] अट्टहास आदि विशेष हास्य (दस १०, ११)।

पहासा स्त्री [प्रहासा] देवी-विशेष (महा)।

पहिअ वि [पान्थ, पथिक] मुसाफिर (हे २, १५२; कुमा; पड; उव; गउड)। °साला स्त्री [°शाला] मुसाफिरखाना, धर्मशाला (धर्मवि ७०; महा)।

पहिअ वि [प्रथित] १ विस्तृत। २ प्रसिद्ध, विख्यात (औप)। ३ राजस-वंश का एक राजा एक लंका-पति (पउम ५; २६२)।

पहिअ वि [प्रहित] मेजा हुआ, प्रेषित (उप पु ४५; ७६८ टी; धम्म ६ टी)।

पहिअ वि [दे] मथित, विलोडित (दे ६, ६)।

पहिऊण देखो पहा = प्र + हा।

पहिसय वि [प्रहिसक] हिसा करनेवाला (श्रौव ७५३)।

पहिजमाण देखो पहा = प्र + हा।

पहिट्ट देखो पहट्ट = प्रहट्ट (औप; सुर ३, २४८; सुपा ६३; ४३७)।

पहिर सक [परि + धा] पहिरना, पहनना।

पहिरइ, पहिरंति (भवि; धर्मवि ७)। कर्म. पहिरिअइ (संबोध १४)। वक. पहिरंत (सिरि ६८)। संक. पहिरित्तं (धम्मवि १५)। प्रयो. संक. पहिरावेऊण, पहिराविऊण (सिरि ४५६; ७७०)।

पहिरावण न [परिधापन] १ पहिराना। २ पहिरावन, भेंट में—इनाम में दिया जाता वत्त्रादि; गुजराती में—'पहिरामणी' (था २८)।

पहिराविय वि [परिधापित] पहिराया हुआ (महा; भवि)।

पहिरिय वि [परिहित] पहिरा हुआ, पहना हुआ (सम्मत् २१८)।

पहिल वि [दे] पहला, प्रथम (संनि ४७; भवि; पि ४४६)। स्त्री. °ली (पि ४४६)।

पहिल अक [दे] पहल करना, आगे करना। पहिल्लइ (पिग)। संक. पहिल्लिअ (पिग)।

पहिल्लि वि [प्रचूगित्] खूब हिलनेवाला, अत्यन्त हिलता (सम्मत् १८७)।

पहिवी देखो पुहवी = पृथिवी (नाट)।

पहीण वि [प्रहीण] १ परिकीर्ण (पिड ६३१; मग)। २ अष्ट, स्वलित (सूत्र २, १, ६)।

पहु पुं [प्रभू] १ परमेस्वर, परमात्मा (कुमा)। २ एक राज-पुत्र, जयपुर के विन्ध्यराज का एक पुत्र (वसु)। ३ स्वामी, मालिक (सुर ४, १५६)। ४ वि. समय, शक्तिमान; 'दाएं दरिहस्तं पहुस्स खंती' (प्रातू ४८)। ५ अवि-पति, मुखिया, नायक (हे ३, ३८)।

°पहुइ देखो °पभिइ (कप्पु)।

पहुई देखो पुहुवी (पड)।

पहुंक पुं [पृथुक] लाघ पदार्थ-विशेष, चिउडा (दे ६, ४४)।

पहुच अक [प्र + भू] पहुँचना। पहुचइ (हे ४, ३६०)। वक. पहुचमाण (श्रौव ५०५)।

पहुट्ट देखो पप्फुट्ट। पहुट्टइ (कप्पु)।

पहुडि देखो पभिइ (हे १, १३१; ती १०; पड)।

पहुण पुं [प्राधुण] अतिवि, मेहमान (उप ६०२)।

पहुणाइय न [प्राचुण्य] आतिव्य, अतिवि-  
सत्कार; 'न्हाणभोयणवत्वाहरणदाणाइयपहु-  
णाडि (? इ)यं संपाडेइ' (रंभा)।

पहुत्तं वि [प्रभूत] १ पर्याप्त, काफी; 'पज्जत्तं  
च पहुत्तं' (पाय; गउड; गा २७७)। २  
समर्थ (से २; ६)। ३ पहुँचा हुआ (ती  
१५)।

पहुदि देखो पभिइ (संज्ञि ४; प्राक १२)।  
पहुपं } अक [प्र + भू] १ समर्थ होना,  
पहुच } संकना। २ पहुँचना। पहुप्पइ (हे  
४.६३; प्राक ६२); 'एमाओ वालियाओ निय-  
नियोहेसु जह पहुप्पंति तह कुणह' (सुपा  
२५०)। पहुप्पामो (काल), पहुप्पिरे (हे ३,  
१४२)। वक्क. 'किं सहइ कोवि कस्सवि पाय-  
पहारं पहुप्पंतो', पहुप्पमाण (गा ७; घोष  
५०५; किरात १६)। कवक. पहुव्वंत (से  
१४, २५; वव १०)। हेक. पहुविउं  
(महा)।

पहुवी ली [पृथिवी] भूमि, धरती (नाट—  
मालती ७२)। 'पहु पुं [प्रभू] राजा  
(हम्मीर १७)। 'वइ पुं [पति] वही अर्थ  
(हम्मीर १३)।

पहुव्वंत देखो पहुव।

पहुअ वि [प्रभूत] १ बहुत, प्रचुर (स  
४५६)। २ उद्गत। ३ भूत। ४ उन्नत  
(प्राक ६२)।

पहेज्जमाण देखो पहा = प्र + हा।

पहेण न [दे] वधू को ले जाने पर पिता के  
घर दी जाती जमीन (आचा २, १, ४, १)।

पहेण न [दे] १ भोजनोपायन, खाद्य  
पहेणग } वस्तु की भेंट (आचा; सूत्र २, १,  
पहेणय } ५६; गा ३२८; ६०३; पिंड ३३५;  
पाय; दे ६, ७३)। २ उत्सव (दे ६, ७३)।

पहेरक न [प्रहेरक] आभरण-विशेष (परह  
२, ५—पत्र १४६)।

पहेलिया ली [प्रहेलिका] गूड़ आशयवाली  
कविता (सुपा १५५; औप)।

पहोअ सक [प्र + धाव] प्रसालन करना,  
'घोना। पहोएज्ज (आचा २, २, १, ११)।

पहोइ वि [प्रधाविन्] धोनेवाला (दस ४,  
२६)।

पहोइअ वि [दे] १ प्रवर्तित। २ प्रभुत्व  
(दे ६, २६)।

पहोड सक [वि + लुल्] हिलोरना, अन्दो-  
लना। पहोडइ (धात्वा १४४)।

पहोयण लोन [प्रधावन] प्रसालन, 'दंतपहो-  
यण य' (दस ३, ३)।

पहोलिर वि [प्रधुर्गित्] हिलनेवाला, डोलता  
(गा ७८; ६६६; से ३, ४६; पात्र)।

पहोव देखो पधोव। पहोवाहि (आचा २, १,  
६, ३)।

पा सक [पा] पीना, पान करना। भवि.  
पाहिसि, पाहामि, पाहामो (कप्प; पि ३१५;  
कस)। कर्म. पिज्जइ (उव), पीअंति (पि  
५३६)। कवक. पिज्जंत (गउड; कुप्र १२०)।  
पीयमाण (स ३८२), पेंत (अप) (सण)।  
संक्र. पाऊण, पाऊणं (नाट—मुद्रा ३६;  
गउड; कुप्र ६२)। हेक. पाउं, पायए (आचा)।  
क. पायव्व, पिज्ज (सुपा ४३८; परह १,  
२; कुमा २, ६), पेअ, पेयव्व (कुमा;  
रयण ६०), पेज्ज (आया १, १; १७;  
उवा)।

पा सक [पा] रक्षण करना। पाइ, पायइ  
(विसे ३०२५; हे ४, २४०), पाउ (पिम)।

पा सक [प्रा] सूचना, गन्व लेना। पाइ,  
पायइ (प्राप्र ८, २०)।

पाइ वि [पातिन्] गिरनेवाला (पंचा ५,  
२०)।

पाइ वि [पायिन्] पीनेवाला (गा ५६७;  
हि ६)।

पाइअ न [दे] वदन-विस्तार, मुँह का फैलाव  
(दे ६, ३६)।

पाइअ देखो पागय = प्रकृत (दे १, ४; प्राक.  
८; प्रात्तु १; वजा ८; पाय; पि ५३); 'अह  
पाइआओ भासाओ' (कुमा १, १)।

पाइअ वि [पायित] पिलाया हुआ, पान  
कराया हुआ (कुप्र ७६; सुपा १३०; स  
४५४)।

पाइंत देखो पाय = पायय।

पाइक पुं [पदाति] प्यादा, पैर से चलनेवाला  
सैनिक (हे २, १३८, कुमा)।

पाइडि ली [प्रावृत्ति] प्रावरण, वस्त्र (गा  
२३८)।

पाइण देखो पाईण (पि २१५ टि)।

पाइत्ता (अप) ली [पवित्रा] छन्द-विशेष  
(पिम)।

पाइइ [शौ] वि [पाचित] पकवाया हुआ  
(नाट—चैत १२६)।

पाइन्न देखो पाईण (एदि ४६)।

पइभ न [प्रातिभ] प्रतिभा, बुद्धि-विशेष (कुप्र  
१५५)।

पाइम वि [पाक्य] १ पकाने योग्य। २  
काल-प्राप्त, मृत (दस ७, २२)।

पाइम वि [पाल्य] गिराने योग्य (आचा २,  
४, २, ७)।

पाई ली [पात्री] १ भाजन-विशेष (आया १,  
१ टी)। २ छोटा पात्र (सूत्र २, २, ७०)।

पाईण वि [प्राचीन] १ पूर्वदिशा-संबन्धी,  
'ववहार-पाइण्णई (? ईण्णई)' (पिंड ३६;  
कप्प; सम १०४)। २ न. गोत्र-विशेष। ३  
पुंल्लो. उस गोत्र में उत्पन्न; 'धेरे अज्जभइ-  
वाहू पाईणसगोत्ते (कप्प)।

पाईणा ली [प्राचीना] पूर्व दिशा (सूत्र २,  
२, ५८; ठा ६—पत्र ३५६)।

पाउ देखो पाउं = प्राडुस् (सूत्र २, ६, ११;  
उवा)।

पाउ पुं [पायु] गुदा, गाँड़ (ठा ६—पत्र  
४५०; सण)।

पाउ पुंली [दे] १ भक्त, भात, भोजन। २  
इसु, ऊख (दे ६, ७५)।

पाउअ न [दे] १ हिम, श्रवशयाम (दे ६,  
३८)। २ भक्त। ३ इसु (दे ६, ७५)।

पाउअ देखो पाउड = प्रावृत (गा ५२०; स  
३५०; औप; सुर ६, ८; पाय; हे १;  
१३१)।

पाउअ देखो पागय (गा २; ६६८; प्राप्र;  
कप्प; पिम)।

पाउआ ली [पाटुका] १ खड़ाऊँ, काष्ठ का  
जूता (भग; सुख २ २६; पिंड ५७२)। २  
जूता, पगरखी (सुपा २५४; औप)।

पाउं देखो पा = पा।

पाउं अ [प्राटुस्] प्रकट, व्यक्त; 'संति  
असंति करिस्सामि पाउं' (सूत्र १, १, ३,  
१)।

पाउंछण } त [प्रादप्रोच्छन, क] जैन  
पाउंछणग } मुनि का एक उपकरण, रजोहरण  
(पव ११२ टी; श्लोष ६३०; पंचा १७;  
१२)।

पाउकर सक [प्रादुस् + कृ] प्रकट करना।  
भवि. पाउकरिस्तामि (उत्त ११, १)।

पाउकर वि [प्रादुष्कर] प्रादुर्भावक (सूत्र १,  
१५, २५)।

पाउकरण न [प्रादुष्करण] १ प्रादुर्भाव। २  
वि. जो प्रकाशित किया जाय वह। ३ जैन  
मुनि के लिए एक भिक्षा-दोष, प्रकाश कर दी  
हुई भिक्षा; 'पकिएणपाउकरणपामिच्च' (पएह  
२, ५—पत्र १४८)।

पाउकाम वि [पातुकाम] पीने की इच्छा  
वाला; 'तं जो एं रावियाए माउयाए दुडं  
पाउकामिं से एं निगगच्छद' (शाया १, १८)।  
पाउक वि [दे] मार्गोद्धत, मार्गित (दे ६,  
४१)।

पाउकरण देखो पाउकरण (राज)।

पाउकखालय न [दे, पायुक्षालक] १  
पाखाना, टट्टी, भलोत्सर्ग-स्थान; 'ठाइ चैव  
एसो पाउकखालयम्मि रयणीए' (स २०५;  
भत ११२)। २ भलोत्सर्ग-क्रिया; 'रयणीए  
पाउकखालयनिमित्तमुट्टिओ' (स २०५)।

पाउग वि [दे] सम्य, सभासद (दे ६, ४१;  
सए)।

पाउग वि [प्रायोग्य] उचित, लायक (सुर  
१५, २३३)।

पाउगह पुं [पतद्ग्रह] पात्र (आचानि  
२८८)।

पाउगिअ वि [दे] १ जुआ खेलनेवाला।  
२ सोढ, सहन किया हुआ (दे ६, ४१;  
प्रा)।

पाउड देखो पागय (प्रा १२; मुद्रा १२०)।  
पाउड वि [प्रावृत्] १ आच्छादित, ढका हुआ  
(सूत्र १, २, २, २२)। २ वस्त्र, कपड़ा  
(ठा ५, १)।

पाउण सक [प्रा + वृ] आच्छादित करना;  
पहिरना। पाउणइ (पिड ३१)। संक. 'पडं  
पाउणिकुण रत्ति विगगओ' (महा)।

पाउण सक [प्रा + आप] प्राप्त करना।  
पाउणइ (भग)। पाउणंति (श्रौष; सूत्र १,

११, २१)। पाउणेजा (आचा २, २, १, ११)  
भवि. पाउणिसामि, पाउणिहिइ (पि ५३१;  
उवा)। संक. पाउणित्ता (श्रौष; शाया १,  
१; विपा २, १; कप्प; उवा)। हेक. पाउणि-  
त्तए (आचा २, ३, २, ११)।

पाउण (अप) देखो पावण = पावन (पिग)।

पाउत्त देखो पउत्त = प्रयुक्त (श्रौष)।

पाउपभाय वि [प्रादुष्प्रभात] प्रभा-युक्त,  
प्रकाश-युक्त; 'कल्लं पाउपभायाए रयणीए'  
(शाया १, १; भग)।

पाउभव अक [प्रादुस् + भू] प्रकट  
होना। पाउभवइ (पव ४०)। भुका.  
पाउभवित्वा (उवा)। वक. पाउभवंत,  
पाउभवमाण (सुपा ६; कुप्र. २६; शाया  
१, ५)। संक. पाउभवित्ताणं (उवा;  
श्रौष)। हेक. पाउभवित्तए (पि ५७८)।

पाउभव वि [पापोद्धव] पाप से उत्पन्न  
(उप ७६८ टी)।

पाउभवणा ली [प्रादुर्भवण] प्रादुर्भाव (भग  
३, १)।

पाउभुय (अप) नीचे देखो (सए)।

पाउभूय वि [प्रादुर्भूत] १ उत्पन्न, संजात।  
२ प्रकटित (श्रौष; भग; उवा; विपा १, १)।  
पाउरण न [प्रावरण] वस्त्र, कपड़ा (सूत्रनि  
८६; हे १, १७५; पंचा ५, १०; पव ४,  
पड)।

पाउरण न [दे] कवच, वस्त्र (पड)।

पाउरणी ली [दे] कवच, वस्त्र (दे ६, ४३)।

पाउरिअ देखो पाउड = प्रावृत् (कुप्र ४५२)।

पाउल वि [पापकुल] हलके कुल का, जघन्य  
कुल में उत्पन्न; 'दवाविंयं पाउलाए दविण-  
जायं' (स ६२६), 'कलसद्दपउरपाउलमंगल-  
संगीयपवरपेक्खणयं' (सुर १०, ५)।

पाउल न, देखो पाउआ, 'पाउल्लाई संकमट्टाए'  
(सूत्र १, ४, २, १५)।

पाउव न [पाउवेद] पाद-प्रक्षालन-जल,  
पाउवदाई च एहाणुवदाई च' (शाया १,  
७—पत्र ११७)।

पाउस पुं [प्रावृप्] वर्षा, ऋतु (हे १,  
१६; प्राप्र; महा)। कीड पुं [कीट]  
वर्षा ऋतु में उत्पन्न होनेवाला कीट-विशेष

(दे)। ागम पुं [ागम] वर्षा-प्रारम्भ  
(पात्र)।

पाउसिअ वि [प्रावृषिक] वर्षा-सम्बन्धी  
(राज)।

पाउसिअ वि [प्रोपित, प्रवासिन्] प्रवास  
में गया हुआ,

'तह मेहागमसंसियआगमणएणं पईए मुद्राओ।  
मग्गमवलोयमाणोउ नियइ पाउसियदइयाओ।'  
(सुपा ७०)।

पाउसिआ ली [प्रावृषिकी] द्वेष—मत्सर  
से होनेवाला कर्म-द्वेष (सम १०; ठा २, १;  
भग; नव १७)।

पाउहारी ली [दे. पाकहारी] मत्त को  
लानेवाला, भात-पानी ले आनेवाला (गा  
६६४ अ)।

पाए अ [दे] प्रवृत्ति, (वहां से) शुरू करके  
(श्रौष १६६; वृह १)।

पाए सक [पायय] पिलाना। पाएइ (हि  
३, १४६)। पाएजाह (महा)। वक. पाइंत,  
पाययंत (सुर १३, १३४; १२, १७१)।  
संक. पाएत्ता (आक ३०)।

पाए सक [पादय] गति कराना। पाएइ  
(हे ३, १४६)।

पाए सक [पाचय] पकवाना। पाएइ  
(हे ३, १४६)। कर्म. पाइजइ (आवक  
२००)।

पाएण २ अ [प्रायेण] बहुत करके, प्रायः  
पाएणं } (चित्ते ११६६; काल; कप्प; प्रासू  
४३)।

पाओ अ [प्रायस्] ऊपर देखो (आ २७)।

पाओ अ [प्रातस्] प्रातःकाल, प्रभात  
(सुज १, ६; कप्प)।

पाओकरण देखो पाउकरण (पिड २६८)।

पाओग देखो पाउग (सूत्रनि ६५)।

पाओगिय वि [प्रायोगिक] प्रयत्न-जनित,  
अस्वाभाविक (चिइय ३५३)।

पाओग देखो पाउग (भास १०; धर्मसं  
११८०)।

पाओपगम न [पादपोपगम] देखो पाओ-  
वगमण (वव १०)।

पाओयर पुं [प्रादुष्कार] देखो पाउकरण  
(ठा ३, ४; पंचा १३, ५)।

पाअ वगमण न [पादपोपगमन] अनशन-विशेष, मरण-विशेष (सम ३३; औप; कप्प; भग) ।

पाओवगय वि [पादपोपगत] अनशन-विशेष से मुत्त (औप; कप्प; अंत) ।

पाओस पुं [दे. प्रद्वेप] मत्सर, द्वेष (ठा ४, ४—पत्र २८०) ।

पाओसिय देखो पादोसिय (औव ६६२) ।

पाओसिया देखो पाउसिया (धम्म ३) ।

पांडविअ वि [दे] जलाद्र, पानी से गीला (दे ६, २०) ।

पांडु देखो पंडु (पत्र २४७) । सुअ पुं [सुत्त] अभिनय का एक भेद (ठा ४, ४—पत्र २८५) ।

पाक देखो पाग (कप्प) ।

पाकम्म न [प्राकान्य] योग की आठ सिद्धियों में एक सिद्धि, 'पाकम्मणुणेण मुणी भुवि व्व नोरे जलि व्व भुवि चरइ' (कुप्र २७७) ।

पाकार पुं [प्राकार] किला, दुर्ग (उप पृ ८४) ।

पाकिद् (शौ) देखो पागय (प्रयो २४; नाट—वेणी ३८; पि ५३; ८२) ।

पाखंड देखो पासंड (पि २६५) ।

पाग पुं [पाक] १ पचन-क्रिया (औप; उवा; सुपा ३७४) । २ दैत्य-विशेष (गजड) । ३ विपाक, परिणाम (धम्मसं ६६५) । ४ बलवान् दुश्मन (आवम) । सासण पुं [शासन] इन्द्र, देव-पति (हे ४, २६५; गजड; पि २०२) । सासणी स्त्री [शासनी] इन्द्रजाल-विद्या (सुप्र २, २, २७) ।

पागइअ वि [प्राकृतिक] १ स्वाभाविक । २ पुं. साधारण मनुष्य, प्राकृत लोक (पत्र ६१) ।

पागड सक [प्र + कटय] प्रकट करना, खुला करना, व्यक्त करना । वक्क. पागडेमाण (ठा ३, ४—पत्र १७१) ।

पागड वि [प्रकट] व्यक्त, खुला (उत्त ३६, ४२; औप; उव) ।

पागडण न [प्रकटन] १ प्रकट करना । २ वि. प्रकट करनेवाला (धम्मसं ८२६) ।

पागडिअ वि [प्रकटित] व्यक्त किया हुआ (उव; औप) ।

पागडिड } वि [प्राकर्पिन्, °क] १ अग्र-पागडिडक } गामी; 'पागड्डी (? ड्डी) पट्टवए चूहवई (एया १, १) । २ प्रवर्तक, प्रवृत्ति करानेवाला (पएह १, ३—पत्र ४५) ।

पागडभ त [प्रागल्भ्य] वृष्टता, डिठाई (सुप्र १, ५, १, ५) ।

पागडिभ } वि [प्रागल्भिन्, °क] वृष्टता-प्रागडिभय } वाला, वृष्ट, ढोठ (सुप्र १, ५, १, ५; २, १, १८) ।

पागय वि [प्राकृत] १ स्वाभाविक, स्वभाव-सिद्ध । २ आर्यावर्त की प्राचीन लोक-भाषा; 'सक्कया पागया चैव' (ठा ७—पत्र ३६३; वित्ते १४६६ टी; खण ६४; सुपा १) । ३ पुं. साधारण बुद्धिवाला मनुष्य, सामान्य लोग; 'जेसि यामागोत्तं न पागता पएणवेहिंति' (सुज्ज १६), 'किंतु महामइगम्मो दुरवगम्मो पागयजणत्त' (वेइय २५६; सुर २, १३०) ।

भासा स्त्री [भाषा] प्राकृत भाषा (आ २३) । वागरण न [°व्याकरण] प्राकृत भाषा का व्याकरण (वित्ते ३४५५) ।

पागार पुं [प्राकार] किला, दुर्ग (उव; सुर ३, ११४) ।

पाजावच्च पुं [प्राजापत्य] १ वनस्पति का अविद्यता देव । २ वनस्पति (ठा ५, १—पत्र २६२) ।

पाटप (चूपे) देखो वाडव (पड) ।

पाठीण देखो पाठीण (पएह १, १—पत्र ७) ।

पाड देखो फाड = पाट्य; 'असिपत्तघणूहि पाडति' (सुप्रनि ७६) ।

पाड सक [पातय] गिराना । पाडेइ (उव) । संक. पाडिअ, पाडिऊण (काप्र १६६; कुप्र ४६) । कवक्क. पाडिज्जांत (उप ३२० टी) ।

पाड देखो पाडय = पाटक; 'तो सो विट्ठुआणे सय गअो वेसपाडम्मि' (सुपा ५३०) ।

पाडचर वि [दे] आसक्त चित्तवाला (दे ६, ३४) ।

पाडचर पुं [पाटचर] चोर, तस्कर (पाप्र; दे ६, ३४) ।

पाडण न [पाटन] विदारण (आव ६) ।

पाडण न [पातन] १ गिराना, पाड़ना (सुप्रनि ७२) । २ परिभ्रमण, इधर-उधर घूमना; 'लहुजडरपिडरपडियारपाडणत्ताए कयकीलो' (कुमा २, ३७) ।

पाडणा स्त्री [पातना] ऊपर देखो (विपा १, १—पत्र १६) ।

पाडय पुं [पाटक] मुहल्ला, रथ्या; 'चंडाल-पाडए गंतु' (धम्मवि १३८; विपा १, ८; महा) ।

पाडय वि [पाटक] गिरानेवाला । स्त्री. 'डिआ (मृच्छ २४५) ।

पाडल पुं [पाटल] १ वरुण-विशेष, श्वेत और रक्त वरुण, गुलाबी रंग । २ वि. श्वेत-रक्त वरुणवाला (पाप्र) । ३ न. पाटलिका-पुष्प, गुलाब का फूल (गा ४६६; सुर ३, ५२; कुमा) । ४ पाटला वृक्ष का पुष्प, पाडल का फूल (गा ३०) ।

पाडल पुं [दे] १ हंस, पक्षि-विशेष । २ वृषभ वैल । कमल (दे ६, ७६) ।

पाडलसउण पुं [दे] हंस, पक्षि-विशेष (दे ६, ४६) ।

पाडला स्त्री [पाटला] वृक्ष-विशेष, पाडल का पेड़, पाडरि (गा ४५६; सुर ३, ५२; सम १५२), 'चंपा य पाडलसखो जया य वसु-पुज्जपत्तियवो होइ' (पउम २०, ३८) ।

पाडलि स्त्री [पाटलि] ऊपर देखो (गा ४६८) । उच्च, पुत्त न [पुत्र] नगर-विशेष, पटना, जो आजकल बिहार प्रदेश का प्रधान नगर है (हे २, १५०; महा; पि २६२; चार ३६) । पुत्त वि [पुत्र] पाटलिपुत्र-संबन्धी, पटना का (पत्र १११) । संड न [पण्ड] नगर-विशेष (विपा १, ७; सुपा ८३) । देखो पाडली ।

पाडलिय वि [पाटलित] श्वेत-रक्त वरुणवाला किया हुआ (गजड) ।

पाडली देखो पाडलि (उप पृ ३६०) । पुर न [पुर] पटना नगर (धम्मवि ४२) । पुत्त न [पुत्र] पटना नगर (पड) ।

पाडव न [पाटव] पटुता, निपुणता (धम्म १० टी) ।

पाडवण न [दे] पाद-पतन, पैर पर गिरना, प्रणाम-विशेष (दे ६, १८) ।

पाडहिग } वि [पाटहिक्] डोल वजानेवाला,  
पाडहिय } डोलिया, डोलकिया (ज्ञ २१६) ।  
पाडहुक वि [दे] प्रतिभू, मनौतिया,  
जामिनदार (पड) ।  
पाडिअ वि [पाटित] फाड़ा हुआ, विदारित  
(स ६६६) ।  
पाडिअ वि [पावित] गिराया हुआ (पात्र;  
प्राप् २; भवि) ।  
पाडिअग पुं [दे] विश्राम (दे ६, ४४) ।  
पाडिअन्क पुं [दे] पिता के घर ले वधू को  
पति के घर ले जानेवाला (दे ६, ४३) ।  
पाडिआ देखो पाडय = पातक ।  
पाडिअक्क } न [प्रत्येक] हर एक (हे २,  
पाडिक्क } २१०; कप्प; पात्र; णाया १,  
१६; २, १; सूत्रनि १२१ टी; कुमा), 'एणे  
जेवे पाडिअणं सरोरणं' (ठा १—पत्र  
१६) ।  
पाडितिय न [प्रात्यन्तिक] अभिनय-विशेष  
(राज ५४) ।  
पाडिचरण न [प्रतिचरण] सेवा, उपासना  
(उप पृ ३४६) ।  
पाडिच्छय वि [प्रतीपसक] ग्रहण करनेवाला  
(सुत्र २, १३) ।  
पाडिज्जंत देखो पाड = पातय् ।  
पाडिपह न [प्रतिपथ] अभिमुख, सामने  
(सूत्र २, २, ३१) ।  
पाडिपहिअ देखो पडिपहिअ (सूत्र २, २,  
३१) ।  
पाडिपिट्टि लो [दे] प्रतिस्पर्धा (पड) ।  
पाडिपवग पुं [पारिप्लवक] पक्षि-विशेष  
(पडम १४, १८) ।  
पाडिपफट्टि वि [प्रतिरपधिन्] स्वर्ण करने-  
वाला (हे १, ४४; २०६) ।  
पाडियंतिय न [प्रात्यन्तिक] अभिनय-विशेष  
(राज) ।  
पाडियक्क देखो पाडिअक्क (श्रौप) ।  
पाडियव वि [प्रातिपद] १ प्रतिपत्-संवन्यो,  
पडवा तिथि का; 'अह चंदो पाडियओ पडिपुओ  
मुक्कमखम्मि' (जर ६०) । २ पुं. एक  
भावी जैन आचार्य (विचार ५०६) ।  
पाडिवया लो [प्रतिपत्] तिथि-विशेष, पक्ष  
की पहली तिथि; पडवा (सम २६; णाया १,  
१०; हे १, १५; ४४) ।

पाडिवेसिय वि [प्रातिवेशिमक] पड़ोसी ।  
लो. ०या (सुपा ३६४) ।  
पाडिसार पुं [दे] १ पटुता, निपुणता । २  
वि. पटु, निपुण (दे ६, १६) ।  
पाडिसिद्धि देखो पडिसिद्धि = प्रतिसिद्धि (हे  
१, ४४; प्राप्र) ।  
पाडिसिद्धि लो [दे] १ स्वर्ण (दे ६, ७७;  
कप्प; कुप्र ४६) । २ समुदाचार । ३ वि.  
सदरा, तुल्य (दे ६, ७७) ।  
पाडिसिरा लो [दे] खलीन-युक्ता (दे ६, ४२) ।  
पाडिस्सुइय न [प्रातिश्रुतिक] अभिनय का  
एक भेद (राज) ।  
पाडिहच्छो } लो [दे] शिरो-माल्य, मस्तक-  
पाडिहत्थी } स्वित पुष्पमाला (दे ६, ४२;  
राज) ।  
पाडिहारिय वि [प्रातिहारिक] वापस देने  
योग्य वस्तु (विसे ३०५७; श्रौप; उवा) ।  
पाडिहेर न [प्रातिहार्य] १ देवता-कृत प्रती-  
हार-कर्म; देवकृत पूजा-विशेष (श्रौप; पव  
३६), 'इय सामइए भावा इहईपि नागदत्त-  
नरनाहो । जाओ सपाडिहेरो' (सुपा ५४४) ।  
२ देव-सामिध्य (भत ६६); 'बहूणं सुरेहि  
कयं पाडिहेरं' (श्रु ६४; महा) ।  
पाडी लो [दे] नैस की बद्धिया, पाड़ी या  
पड़िया गुजराती में 'पाडी' (गा ६५) ।  
पाडुंकी लो [दे] बणी—जखमवाले की  
पालकी (दे ६, ३६) ।  
पाडुंगोरि वि [दे] १ निपुण, उण-रहित ।  
२ मद्य में आसक्त । ३ लो. मज्जत वेष्टन-  
वाली वाड़; 'पाडुंगोरो च वुत्तिदोषं यस्या  
विवेष्टनं परितः' (दे ६, ७८) ।  
पाडुक्क पुं [दे] समालम्भन, चन्दन आदि का  
शरीर में उपलेप । २ वि. पटु, निपुण (दे ६,  
७६) ।  
पाडुच्चिय वि [प्रातीतिक] किसी के आश्रय  
से होनेवाला, आपेक्षिक । लो. ०या (न २,  
१; नव १८) ।  
पाडुच्चो लो [दे] तुरग-मण्डन, घोड़े का  
सिंघार (दे ६, ३६; पात्र) ।  
पाडुहुअ वि [दे] प्रतिभू, मनौतिया, जामिन-  
दार (दे ६, ४२) ।  
पाडेक्क देखो पाडिक्क (सम्म ५५) ।

पाडोस पुं [दे] पड़ोस, प्रातिवेशिमकता (श्रा  
२७) ।  
पाडोसिअ वि [दे] पड़ोसी, पड़ोसिया (सिदि  
३१२; श्रा २७; सुपा ५५२) ।  
पाड सक [पाठय्] पढ़ाना, अव्ययन कराना ।  
पाडइ, पाडइ (प्राक् ६०; प्राप्र) । कर्म. पाडिअइ  
(प्राप्र) । संक. पाडिअण, पाडेअण (प्राक्  
६१) । हेक्. पाडिअं, पाडेअं (प्राक् ६१) ।  
क. पाडणिअ, पाडिअव्व, पाडेअव्व  
(प्राक् ६१) ।  
पाड पुं [पाठ] १ अव्ययन, पठन (श्रोधभा  
७१; विसे १३८४; सम्मत् १४८) । २ शात्र,  
आगम । ३ शात्र का उल्लेख; 'पाडो ति वा  
सत्वं ति वा एण्ठा' (आनु १) । ४ अव्यापन,  
शिखा (उप पृ ३०८; विसे १३८४) ।  
पाड देखो पाडय = पाटक (या ६३ टी) ।  
पाडंतरत्त [पाटान्तर] भिन्न पाठ (श्रावक  
३११) ।  
पाडग वि [पाठक] १ उच्चारण करनेवाला,  
'पडियं मंगलपाडोहि' (कुप्र ३२) । २  
अभ्यासी, अव्ययन करनेवाला । ३ अव्यापन  
करनेवाला, अव्यापक; 'वट्ठुपाडना', 'सुमिण-  
पाडगाणं', 'लक्खणसुमिणपाडगाणं' (धर्मवि  
३३; णाया १, १; कप्प) ।  
पाडण न [पाठन] अव्यापन (उप पृ १२८;  
प्राक् ६१; सम्मत् १४२) ।  
पाडणया लो [पाठना] ऊपर देखो (पंचभा  
४) ।  
पाडय देखो पाडग (कप्प; स ७; णाया १,  
१—पत्र २०; महा) ।  
पाडव वि [पाथिव] पृथिवी का विकार,  
पृथिवी का; 'पाडवं सरोरं हिवा' (उत्त ३,  
१३) ।  
पाडा लो [पाठा] वनस्पति-विशेष, पाद, पाठ  
का गच्छ (पण १७) ।  
पाडाव सक [पाठय्] पढ़ाना, अव्यापन  
करना । पाडावेइ (प्राप्र) । संक. पाडाविक्रण,  
पाडावेअण (प्राक् ६१) । हेक्. पाडाविअं,  
पाडावेअं (प्राक् ६१) । क. पाडावणिअ,  
पाडाविअव्व (प्राक् ६१) ।  
पाडावअ वि [पाठक] अव्यापक (प्राक् ६०) ।  
पाडावण न [पाठन] अव्यापन (प्राक् ६१) ।

पाठाविअ वि [पाठित] अघ्यापित (प्राक् ६१) ।

पाठाविअवंत वि [पाठितवन्त] जिसने पढ़ाया हो वह (प्राक् ६१) ।

पाठाविउ } वि [पाठयित्] पढ़ानेवाला  
पाठाविर } (प्राक् ६१; ६०) ।

पाठिअ वि [पाठित] पढ़ाया हुआ, अघ्यापित (प्राप्र) ।

पाठिअवंत देखो पाठाविअवंत (प्राक् ६१) ।

पाठिआ वी [पाठिका] पढ़नेवाली वी (कम्प) ।

पाठिउ } वि [पाठयित्] अघ्यापक, पढ़ाने-  
पाठिर } वाला (प्राक् ६१) ।

पाठीण पुं [पाठीन] मत्स्य-विशेष, 'पोठिया' मछली, मत्स्य की एक जाति (गा ४१४; विक्र ३२) ।

पाठीआमास पुं [पृथगामर्श] बारहवें अंग-अंश का एक भाग (सादि २३५) ।

पाण सक [प्र + आनय] जिलाना । वक्र-पाणअंत (नाट—मालती ५) ।

पाण पुं वी [दे] श्वपच, चण्डाल (दे ६, ३८; उप पृ १५४; महा; पात्र; ठा ४, ४; वव १) । वी. णी (सुख ६, १; महा) । उडी वी [कुटी] चण्डाल की नौपट्टी (गा २२७) । 'विल्या वी [वनिता] चण्डाली (उप ७६८ टी) । उंडवर पुं [उडम्बर] वक्र-विशेष (वक्र ७) । उडिअ पुं [उडिअ-पति] चण्डाल-नायक (महा) ।

पाण न [पान] १ पीना, पीने की क्रिया (सुर ३, १०) । २ पीने की चीज, पानी आदि (सुज २० टी; पडि; महा; आचा) । ३ पुं. गुच्छ-विशेष; 'सणपाणकासमहगण्वाडगसा-मसिदुवारे व' (परण १) । पच न [पात्र] पीने का भोजन, प्याला (दे) । गार न [गार] मद्य-गृह (साया १, २; महा) । हार पुं [हार] एकाशन तप (संबोध ५८) ।

पाण पुंन [प्राण] १ जीवन के आचार-भूत वे दश पदार्थ—वाचं इन्द्रियां, मन, वचन और शरीर का बल, उच्छ्वास तथा निःश्वास (जी २६; परण १; महा; ठा १; ६) । २ समय-परिमाण विशेष, उच्छ्वास-निःश्वास-परिमित काल (इक. श्रुणु) । ३ जन्तु, प्राणी, जीव;

'पाणुणि चवं विणिहंति मंवा' (सूत्र १, ७, १६; ठा ६; आचा; कम्प) । ४ जीवित, जीवन (सुपा २६३; ५३३; कम्प) । इत्त वि [वन्] प्राणवाला, प्राणी (पि ६००) । चय पुं [त्यय] प्राण-नाश (सुपा २६८; ६१६) । चाय पुं [त्याग] मरण, मौत (सुर ४, १७०) । जाइय वि [जातिक] प्राणी, जीव, जन्तु (आचा १, ६, १, १) । नाह पुं [नाथ] प्राणनाथ, पति, स्वामी (रंभा) । पिपया वी [प्रिया] वी, पत्नी (सुर १, १०८) । वह पुं [वध] हिंसा (परह १, १) । वित्ति वी [वृत्ति] जीवन-निवाह (महा) । सम पुं [सम] पति, स्वामी (पात्र) । सुहुम न [सूक्ष्म] सूक्ष्म जन्तु (कम्प) । हिय वि [ह्यन्] प्राण-नाशक (रंभा) । इंत वि [वन्] प्राणवाला, प्राणी (प्राप्र) । इयाइया वी [तिपातिकी] क्रिया-विशेष, हिंसा से होने-वाला कर्म-बन्ध (नव १७) । इयाय पुं [तिपात] हिंसा (उवा) । उ पुंन [युस्] अन्धांश-विशेष, बारहवां पूर्व (सम २५; २६) । पाण, पाणु पुंन [पान] उच्छ्वास और निःश्वास (धर्मसं १०८; ६८) । याम पुं [याम] योगाङ्ग-विशेष—रेचक, कुम्भक और पूरक नामक प्राणों को दमने का उपाय (गउड) ।

पाणंतकर वि [प्राणान्तकर] प्राण-नाशक (सुपा ६१४) ।

पाणतिय वि [प्राणान्तिक] प्राण-नाशवाला, 'पाणतियावई पडु' (सुपा ४५२) ।

पाणग पुंन [पानक] १ पेय-द्रव्य-विशेष (पंचभा १; सुज २० टी; कम्प) । २ वि. पान करनेवाला (?) । 'ए पाणगो जं ततो अरणो' (धर्मसं ८२; ७८) ।

पाणद्धि वी [दे] रथ्या, मुहला (दे ६, ३६) ।

पाणम अक [प्र + अण] निःश्वास लेना, नीचे सोसना । पाणमंति (सम २; भग) ।

पाणय न [पानक] देखो पाण = पान (विसे २५७८) ।

पाणय पुं [प्राणत] स्वर्ग-विशेष, दसवां देव-लोक (सम ३७; भग; कम्प) । २ विमानेन्द्रक, देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३५) । ३ प्राणत

स्वर्ग का इन्द्र (ठा ४, ४) । ४ प्राणत देव-लोक में रहनेवाला देव (श्रुणु) ।

पाणहा वी [उपानह] वृत्ता, 'पाणहाओ य द्रतं च एलीयं बालवीयण' (सूत्र १, ६, १८) ।

पाणाअअ पुं [दे] श्वपच, चण्डाल (दे ६, ३८) ।

पाणाम पुं [प्राण] निःश्वास (भग) ।

पाणामा वी [प्राणामी] दोस्त-विशेष (भग ३, १) ।

पाणाली वी [दे] दो हाथों का प्रहार (दे ६, ४०) ।

पाणि पुं [प्राणिन्] जीव, आत्मा, चेतन (आचा; प्रासू १३६; १४४) ।

पाणि पुं [पाणि] हस्त, हाथ (कुमा; स्वप्न ५३; ६०) । गहण देखो गगहण (भवि) । गह पुं [ग्रह] विवाह (सुपा ३७३; धर्मवि १२३) । गहण न [ग्रहण] विवाह, शादी (विपा १, ६; स्वप्न ६३; भवि) ।

पाणिअ न [पानीय] पानी, जल (हे १, १०१; प्राप्र; परह १, ३; कुमा) । धारिया वी [धरिका] पनिहारी; 'जियसतुस्स रणणो पाणियव(?) वरियं सदावेइ' (साया १, १२—पत्र १७५) । हारी वी [हारी] पनिहारी (दे ६, ५६; भवि) । देखो पाणीअ ।

पाणिणि पुं [पाणिनि] एक प्रसिद्ध व्याकरण-कार ऋषि (हे २, १४७) ।

पाणिणीअ वि [पाणिनीय] पाणिनि-संस्कृत, पाणिनि का (हे २, १४७) ।

पाणी देखो पाण = (दे) ।

पाणी वी [पानी] बल्लो-विशेष, 'पाणी सामा-बल्लो पुंजावल्ली य वत्याणो' (परण १—पत्र ३३) ।

पाणीअ देखो पाणिअ (हे १, १०१; प्रासू १०५) । धरी वी [धरी] पनिहारी (साया १, १ टी—पत्र ४३) ।

पाणु पुंन [प्राण] १ प्राण वायु । २ श्वासे-उच्छ्वास (कम्प ५, ४०; श्रौष; कम्प) । ३ समय-परिमाण-विशेष, 'एणे ऊसासनीसासे एस पाणुत्ति बुचइ । सत्त पाणुण्णि से वेवे' (तंदु ३२) ।

पात } देखो पाय = पात्र (सूत्र १. ४, २;  
पाद } परह २, ५—पत्र १४८) । वंध्यण न  
[वंध्यन] पात्र वांघने का वक्र-खण्ड, जैन-  
मुनि का एक उपकरण (परह २, ५) ।

पाद देखो पाय = पाद (विपा १, ३) । सम  
वि [सम] गेय-विशेष (ठा ७—पत्र  
३६४) । षोडशपय न [षोडशपद] दृष्टिवाद  
नामक वारहवें जैन आगम-ग्रन्थ का एक  
प्रतिपाद्य विषय (सम १२८) ।

पादु देखो पाद = प्रादुस् । पादुरेत्तए (पि  
३४१) । पादुकासि (सूत्र १, २, २, ७) ।

पादो देखो पाओः = प्रातस् (सुत्र १, ६) ।

पादोसिय वि [प्रादोसिक] प्रदोष-काल का,  
प्रदोष-संघन्वी (श्रीघ ६५८) ।

पादय देखो पायय (गा ५३७ अ) ।

पाधन्न देखो पाहन्न (धर्मसं ७८६) ।

पाधार सक [त्वा + गम्, पाद + धारय ]  
पचारना, 'पाधारह निग्रहे' (आ १६) ।

पावद्ध वि [प्रावद्ध] विशेष वैवा हुआ,  
पाशित (निचू १६) ।

पाभाइय } वि [प्राभातिक] प्रभात-  
पाभानिय } संघन्वी (श्रीघना ३११; अनु  
६; धर्मवि ५८) ।

पाम सक [प्र + आप्] प्राप्त करना,  
गुजराती में 'पामबु' ।

'कारवेड पडिमं जिणएण जिप्ररोगदोसमोहाणं ।  
सो अन्नने पामइ भवमलएणं धम्मवररयएणं ॥'  
(रयण १२) । कर्म, पामिजइ (सम्मत्त  
१४२) ।

पामण न [प्रामाण्य] प्रमाणता, प्रमाणपन  
(धर्मसं ७५) ।

पामद्दा छी [दि] दोनों पैर से धान्य-मर्दन (दे  
६, ४०) ।

पामन्न देखो पामण (विसे १४६६; चेइय  
१२४) ।

पामर पुं [पामर] कृषोवल, कर्पक, खेती का  
काम करनेवाला गृहस्थ; 'पामरगहवइतेआण-  
कात्तया दोएण हनिआ' (पात्र; वजा २३४;  
गठह; दे ६, ४१; सुर १६, ५३) । २ हलकी  
जाति का ननुष्य (कण्ठ; गा २३८) । ३ मूल  
वेवकूक, धत्तानी (गा १६४); को नाम  
पानरं मुत्तुं वचइ दुदमकइमे' (आ १२) ।

पामा छी [पामा] रोग-विशेष, खुजली, खाज  
(सुपा २२७) ।

पामाड पुं [पमाट] पमाड़, पमार, पवाड,  
चक्रवड़, वृत्त-विशेष (पात्र) ।

पामिच्च सक [दि] उवार लेना । पामिच्चेज  
(आचा २, २, २, ३) ।

पामिच्च न [दि. अपमित्य] १ वार लेना,  
वापस देने का वादा कर ग्रहण करना । २  
वि. जो उवार लिया जाय. वह (पिड ६२;  
३१६; आचा; ठा ३, ४; ६; श्रीघ; परह २,  
५; पत्र १२५; पंचा १३, ५; सुपा ६४३) ।

पामिच्चिय वि [दि] उवार लिया हुआ (आचा  
१, १०, १) ।

पामुक्क वि [प्रमुक्क] परित्यक्त (पात्र; स  
६५७) ।

पामूल न [पादमूल] पैर का मूल भाग, पाँव  
का अग्र भाग (पठम ३, ६; सुर ८, १६६;  
पिड ३२८) । देखो पायमूल = पादमूल ।

पामोक्ख देखो पमुह = प्रमुच (आया १, ५;  
८; महा) ।

पामोक्ख पुं [प्रमोक्ख] मुक्ति, छुटकारा (उप  
६४८ टी) ।

पाय पुं [दि] १ रय-चक्र, रय का पहिया (दे  
६, ३७) । २ फणी, साँप (पड) ।

पाय पुं [पाक] १ पाचन-क्रिया । २ रसोई  
(प्राक १६; उप ७२८ टी) ।

पाय वि [पाक्य] पाक-योग्य (दस ७, २२) ।

पाय देखो पाव (चंड) ।

पाय पुं [पात] १ पतन (पंचा २, २५, से  
१, १२) । २ संघन्व; 'पुणो पुणो तरलविट्ठि-  
पाएहि' (सुर ३, १३८) ।

पाय पुं [पाय] पाल, पाने की क्रिया (आ  
२३) ।

पाय पुं [पाट] १ गमन, गति (आ २३) ।  
२ पैर चरण, पाँव; 'चलणा कमा व पाया'  
(पात्र; आया १, १) । ३ पय को चौथा  
हिस्ता (हे ३, १३४; पिग) । ४ किरण;  
'अंमु रस्सी पाया' (पात्र, अजि २८) । ५  
सानु, पर्वत का कटक (पात्र) । ६ एकाग्र  
तप (संघोष ५८) । ७ छः अंगुली का एक  
नाप (इक) । कंचणिया छी [काञ्चनिका]  
पैर प्रसालन का एक सुवर्ण-पात्र (राज) ।

कंनल पुं [कंम्वल] पैर पोंछने का वक्र-  
खण्ड (उत्त १७; ७) । कुक्कुड पुं

[कुक्कुट] कुक्कुट-विशेष (आया १, १७  
टी—पत्र २३०) । वाय पुं [वात] चरण-  
प्रहार (पिग) । चार पुं [चार] पैर से

गमन (आया १, १) । चारि वि [चारिन्]  
पैर से यातायात करनेवाला, पाद-विहारी  
(पठम ६१, १६) । जाल, जाला न

[जाल, क] पैर का श्राभूषण-विशेष (श्रीघ;  
अजि ३१; परह २, ५) । चाण न [त्राण]  
जूता, पगरखी (दे १, ३३) । पलंघ पुं

[प्रलम्ब] पैर तक लटकनेवाला एक श्राभू-  
षण (आया १, १—पत्र ५३) । पीठ देखो

वीठ (आया १, १; महा) । पुंछण न

[प्रोञ्जण] खोहरण, जैन साधु का एक  
उपकरण (आचा; श्रीघ ५११; ७०६; भग,  
उवा) । पडण न [पतन] पैर पर गिरना,

प्रणाम-विशेष (पठम ६३, १८) । मूल न

[मूल] १ देखो पामूल (कस) । २ मनुष्यों  
की एक साधारण जाति, नतकों की एक

जाति; 'समागयाइ पायमूलाइ', 'पुलइज्जमाणो  
पायमूलेहि पत्तो रहसमीवे', 'पणचियाइ

पायमूलाइ', 'सहावियाइ पायमूलाइ', 'परा-  
धत्तेहि पायमूलेहि' (स ७२१; ७२२, ७३४) ।

लेहणिआ छी [लेखनिका] पैर पोंछने  
का जैन साधु का एक काष्ठमय उपकरण

(श्रीघ ३६) । वंदय वि [वन्दक] पैर पर  
गिरकर प्रणाम करनेवाला (आया १, १३) ।

वडण न [पतन] पैर पर गिरना, प्रणाम-  
विशेष (हे १, २७०; कुमा; सुर २, १०६) ।

वडिया छी [वृत्ति] पाद-पतन, पैर छूना,  
प्रणाम-विशेष; 'पायवडियाए खेमकुसलं

पुच्छंति' (आया १, २; सुपा २५) । विहार  
पुं [विहार] पैर से गति (भग) । वीठ

न [पीठ] पैर रखने का आसन (हे १,  
२७०; कुमा; सुपा ६८) । सीसग न

[शीर्षक] पैर के ऊपर का भाग (राय) ।  
उलअ न [कुलक] छन्द-विशेष (पिग) ।

पाय देखो पत्त = पात्र (आचा; श्रीघ; श्रीघना  
३६; १७४) । केसरिआ छी [केसरिका]  
जैन साधुओं का एक उपकरण, पात्र-प्रमाणन

का कपड़ा (श्रीघ ६६८; विसे २५५२ टी) ।

°द्वयण, °ठयण न [°स्थापन] जैन मुनियों का एक उपकरण, पात्र रखने का बल्ल-खण्ड (विसे २५५२ टी; श्लोष ६६८)। °णिल्लोग, °णिल्लोग पुं [°निर्योग] जैन साधु का यह उपकरण-समूह—पात्र, पात्रवन्ध, पात्रन्यापन, पात्रकेशरिका, पटल, रजव्वाण और गुच्छक (पिंड २६; बृह ३; विसे २५५२ टी)। °पडिमा स्त्री [°प्रतिमा] पात्र-संबन्धी अभिग्रह—प्रतिमा-विशेष (ठा ४, ३)। देखो पाद = पात्र।

पाय (अप) देखो पत्त = प्राप्त (पिन)।

पाय° अ [प्रायस्] प्रायः, बहुत करके; 'पायप्पायं वयोइ ति' (पिंड ४४३)।

°पाय पुं. व. [°पाद] पूज्य, 'संशुभ्रा अजिअ-संतिपायया' (अजि ३४)।

पायए देखो पा = पा।

पापं देखो पाय° (स ७६१; सुपा २८; ५६६; श्रावक ७३)।

पायं अ [प्रातस्] प्रभात (सूत्र १, ७, १४)।

पायंगुड पुं [पादाङ्गु] पैर का अंगूठा (खाया १, ८)।

पायंजलि पुं [पातञ्जल] पतञ्जलिभूत शास्त्र, पातञ्जल योग-सूत्र (एदि १६४)।

पायंत न [पादान्त] गीत का एक भेद, पाद-वृद्धगीत (राय ५४)।

पायंदुय पुं [पादान्दुक] पैर बांधने का काष्ठमय उपकरण (विपा १, ६—पत्र ६६)।

पायक देखो पायय = पातक (वव १)।

पायक देखो पाइक (सम्मत्त १७६)।

पायकिरण न [प्रादक्षिण्य] प्रदक्षिणा (पउम ३२, ६२)।

पायग न [पातक] पाप (श्रावक २४८)।

पायच्छित्त पुंन [प्रायश्चित्त] पाप-नाशन कर्म, पाप-नाश करनेवाला कर्म; 'पारंशिश्रो नाम पायच्छित्तो संबुत्तो' (सम्मत्त १४४; उवा; श्रौप; नव २६)।

पायड देखो पागड = प्र + कटय्। पायडड (भवि)। वक्र. पायडंत (सुपा २५६)।

वक्र. पायडिजंत (गा ६८५)। हे. पायडिउं (कुप्र १)।

पायड न [दे] अंगण, आंगन (दे ६, ४०)।

पायड देखो पागड = प्रकट (हे १, ४४; प्राप्र; श्लोष ७३; जी-२२, प्रासू ६४)।

पायड देखो पागड = प्राकृत; 'अहंपि दाव दिप्रसे राअरं परिअमिअ श्रलडभोआ पाअ-उंगणिआ विअ रति पस्सदो सइदुं आअच्छामि' (श्रवि २६)।

पायड वि [प्रावृत] आच्छादित (विसे २५७६ टी)।

पायडिअ वि [प्रकटित] व्यक्त किया हुआ (कुप्र ४; से १, ५३; गा १६६; २६०; गउड; स ४६८)।

पायडिह वि [प्रकट] खुला (वज्जा १०८)।

पायण न [पायन] मिलाना, पान कराना (खाया १, ७)।

पायत्त न [पादात्] पदाति-समूह, प्यादों का लश्कर (उत्त १८, २; श्रौप; कम्प)। °णिय न [°नीक] पदाति सेव्य (पि ८०)।

पायपुंजण न [पादपुञ्जन] पात्र-विशेष, शराव, सकोरा।

पायप्पहण पुं [दे] कुक्कुट, मुर्गा (दे ६, ४५)।

पायय न [पातक] पाप (अचु ४३)।

पायय देखो पाय = पाप (पाअ)।

पायय देखो पागय (हे १, ६७)।

पायय देखो पायव (से ६, ७)।

पायय देखो पायय = पावक (अभि १२५)।

पायय देखो पाय = पाद (कम्प)।

पायरास पुं [प्रातराश] प्रातःकाल का भोजन, जलपान, जलखवा (आचा; खाया १, ८)।

पायल न [दे] चयु, आंख (दे ६, ३८)।

पायव पुं [पादप] वृक्ष, पेड़ (पाअ)।

पायव्व देखो पा = पां।

पायस पुंन [पायस] दूध का मिश्रण, खीर; 'पायसो खीरो' (पाअ; सुपा ४३८)।

पायसो अ [प्रायशस्] प्रायः, बहुत कर (उप ४४६; पंचा ३, २७)।

पायार पुं [प्राकार] किला, कोट, दुर्ग (पाअ; हे १, २६८; कुमा)।

पायाल न [पाताल] रसा-तल, अधो भुवन (हे १, १८०; पाअ)। °कलश पुं [°कलश]

समुद्र के मध्य में स्थित कलशाकार वस्तु (अणु)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (पउम ४५, ३६)। °मंदिर न [°मन्दिर] पाताल-स्थित गृह (महा)। °हर न [°गृह] वही अर्थ (महा)।

पायाल न [पाददल] पादात्य सेव्य, पैदल सैनिक (चउपपत्त० पत्र० १८५)।

पायालंकारपुर न [पाताललङ्कापुर] पाताल-लंका, रावण की राजधानी; 'पायालंकारपुरं सिग्घं पत्ता मव्विग्गा' (पउस ६, २०१)।

पायावच्च न [प्राजापत्य] महोरात्र का चौद-हवां मुहूर्त (सम ५१)।

पायाविय वि [पायित] पिलाया हुआ (पउम ११, ४१)।

पायाहिण न [प्रादक्षिण्य] १ वेद्य (पव ६१)। २ दक्षिण की ओर; 'पायाहिणेण तिहि पंतिआहि भाएह लद्धिपए' (सिरी १६६)।

पायाहिणा देखो पयाहिणा; 'पायाहिणं करितो' (उत्त ६, ५६, सुख ६, ५६)।

पार अक [शक्] सकना, करने में समर्थ होना। पारइ, पारेइ (हे ४, ८६; पाअ)। वक्र. पारंत (कुमा)।

पार सक [पारय] पार पहुँचना, पूर्ण करना। पारेइ (हे ४, ८६; पाअ) हे. पारित्तए (भग १२, १)।

पार पुंन [पार] १ तट, किनारा (आचा)। २ पर्ला, किनारा; 'परत्तोरे पारं' (पाअ), 'किह म्हे होही भवजलहिपारं' (निसा ५)।

३ परलोक, आगामी जन्म। ४ मनुष्य-लोक-भिन्न नरक आदि (सूत्र १, ६, २८)। ५ मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण; 'पारं पुण्युत्तरं बुहा वित्ति' (बृह ४)। °ग वि [°ग] पार जाने-वाला (श्रौप; सुपा २५४)। °गय वि [°गत]

१ पार-प्राप्त (भग; श्रौप)। २ पुं. जिन-देव, भगवान् अहं (उप १३२ टी)। °गामि वि [°गामिन्] पर पहुँचनेवाला (आचा; कम्प; श्रौप)। °पाणग न [°पातक] पेय द्रव्य-विशेष (खाया १, १७)। °विउ वि [°विउ]

पार को जाननेवाला (सूत्र २, १, ६०)। °भोय वि [°भोग] पार-आपक (कम्प)।



पार देखो पाचार (हे १, २६८; कुमा) ।  
 पारक न [दे] मदिरा नापने का पात्र (दे ६, ४१) ।  
 पारंगम वि [पारंगम] १ पार जानेवाला ।  
 २ पार-गमन (आचा) ।  
 पारंगय वि [पारंगत] पार-प्राप्त (कुप्र २१) ।  
 पारंचि वि [पाराञ्चि] सर्वोच्छ्रय—दशम प्रायश्चित्त करनेवाला, 'पारंचोणं दोरहृदि' (बृह ४) ।  
 पारंचिय न [पाराञ्चिक] १ सर्वोच्छ्रय प्रायश्चित्त, तप-विशेष से श्रुतिचारों की पार-प्राप्ति (ठा ३, ४—पत्र १६२; श्रौष) । २ वि. सर्वोच्छ्रय प्रायश्चित्त करनेवाला (ठा ३, ४) ।  
 पारंचिय [पाराञ्चित] ऊपर देखो (कतः बृह ४) ।  
 पारंपज्ज न [पारम्पर्व] परम्परा (रंभा १५) ।  
 पारंपर पुं [दे] राजसूत (दे ६, ४४) ।  
 पारंपर } न [पारम्पर्व] परम्परा (पञ्चम पारंपरिय) २१, ८०; आरा १६; धर्मसं १११८; १३१७; 'आयस्यपारंपर्ये' (?) रिण) 'ए आगव्यं' (सूत्रनि १२७—पृष्ठ ४८७) ।  
 पारंपरिय वि [पारम्परिक] परंपरा से चला आता (उप ७२८ टी) ।  
 पारंभ सक [प्रा + रभ्] १ आरम्भ करना, शुरु करना । २ हिंसा करना, मारना । ३ पीड़ा करना । पारंभेमि (कुप्र ७०) । कवक, 'तएहाए पारंभमाण' (श्रौष) ।  
 पारंभ पुं [प्रारंभ] शुरु, उपक्रम (विते १०२०; पव १६६) ।  
 पारंभिय वि [प्रारंभ्य] आरम्भ, उपक्रम (धर्मत्रि १४४; सुर २, ७७, १२, १५६; सुपा ५५) ।  
 पारंकेर } वि [परकीय] पर का, अन्यदीय पारक } (हे १, ४४; २ १४८; कुमा) ।  
 पारंकिअ देखो पारक (माल १६२) ।  
 पारंभमाण देखो पारंभ = प्रा + रभ् ।  
 पारण } न [पारण, क] व्रत के दूसरे दिन पारणग } का भोजन, तप की समाप्ति के अनन्तर पारणय } का भोजन (सण; उवा; महा) ।  
 पारणा स्त्री [पारणा] ऊपर देखो । 'इत्त वि [वत्] पारणवाला (पंचा १२, ३५) ।

पारतंत न [पारतन्त्र्य] पारतन्त्रता, पराधीनता (उप २५२; पंचा ६, ४१; ११, ७) ।  
 पारत्त श्र [परत्त] परलोक में, आगामी जन्म में; 'पारत्त विद्मज्जमो यम्मो' (पञ्च ५, १६३) ।  
 पारत्त वि [पारत्त, पारत्तिक] पारलौकिक, आगामी जन्म से संबन्ध रखनेवाला; 'इतो पारत्तहियं ता कोरु देव । वंक्कुलिसस' (धर्मवि ६०; श्रौष ६२; त २४६) ।  
 पारत्ति स्त्री [दे] कुमुद-विशेष (गउड; कुमा) ।  
 पारत्तिय वि [पारत्तिक] देतो पारत्त = पारत्त (स ७०७) ।  
 पारदारिय वि [पारदारिक] परद्वी-सम्पद (गामा १, १८—पत्र २३६) ।  
 पारद्व वि [प्रारद्व] १ जिसका प्रारम्भ किया गया हो वह; 'पारद्वो य विवाहनिमित्तं सज्जा सामग्यो' (महा) । २ जो प्रारम्भ करने लगा हो वह; 'तयो अवरसहसमए पारद्वो नञ्चिउं' (महा) ।  
 पारद्व न [दे] पूर्व-कृत कर्म का परिणाम, प्रारब्ध । २ वि. धातुक; शिकारी । ३ पीड़ित (दे ६, ७७) ।  
 पारद्वि स्त्री [पापद्वि] शिकार, मृगया (हे १, २३५; कुमा; उप पृ २५७; सुपा २१६) ।  
 पारद्विअ वि [पापद्विक] शिकारी, शिकार करनेवाला, गुजराती में 'पारवी'; 'मयणमहा-पारद्वियनिसायवाणायलीविडा' (सुपा ७१; मोह ७६) ।  
 पारमिया स्त्री [पारमिता] बौद्ध-शास्त्र-परि-भाषित प्राणतिपात-विस्मयादि शिवा-व्रत, अहिंसा आदि व्रत (धर्मसं ६८८) ।  
 पारम्भ न [पारम्भ्य] परमता, उच्छ्रयता (अजक ११४) ।  
 पारय वि [पारय] समर्थ (आचा २, ३, २, ३) ।  
 पारय पुं [पारय] वातु-विशेष, पारा, रस-वातु । 'मद्वण न [मद्वेन] आणुवेद-विहित रीति से पारा का मारण, रसायन-विशेष; 'अंग-कडियायाहेउं च सेवन्ति पारयमद्वणं' (स २८६) । २ वि. पार-प्रापक (श्रु १०६) ।

पारय न [दे] गुरा-भाएड, दाक रखने का पात्र (दे ६, ३८) ।  
 पारय देतो पार-न (कण्ठ; गग; यंत) ।  
 पारय पुं [प्रावारक] १ पट, पत्र । २ वि. आच्छादक (हे १, २७१; कुमा) ।  
 पारलोइअ वि [पारलौकिक] परलोक-संबन्धी, आगामी जन्म से संबन्ध रखनेवाला (पण्ड १, ३; ४; मूत्र २, ७, २३; कुप्र ३८१; सुपा ४६१) ।  
 पारवरस न [पारवश्य] परलौकिकता, पराधीनता (रयण ८१) ।  
 पारस पुं [पारस] १ अनाथं देश-विशेष, फारस देश, ईरान (इक) । २ गणित-विशेष, जिसके स्तरों में लोहा मुखां हो जाता है (संवाच ५३) । ३ पारस देश में रहनेवाली मनुष्य-जाति (पण्ड १, १) । 'उत्त न [कूळ] १ ईरान देश; 'नरिउय भंडसा बह्याई पतो पारसउलं', 'इमो य सो अपलो पारसउले विउविय बहुयं दव्यं' (महा) । २ वि. पारस देश का, ईरान का निवासी; 'मागद्वयारसउला कालिगा सीहला य तहा' (पञ्च ६६, ५५) । 'कूळ न [कूळ] ईरान का फिनारा, ईरान देश की सीमा (आचम) ।  
 पारसिय वि [पारसिक] फारस देश का, 'सहसा पारसियमुमो समानमो रावपयमूने', 'पारसियकीरमिहणं' (सुपा २६७; ३६०) ।  
 पारसी स्त्री [पारसी] १ पारस देश की स्त्री (श्रौष; गामा १, १—पत्र ३७; इक) । २ लिपि-विशेष, फारसी लिपि (विते ४६४ टी) ।  
 पारसीअ वि [पारसीक] फारस देश का निवासी (गउड) ।  
 पाराई स्त्री [दे] लोह-कुशी-विशेष, लोहे की दंडाकार छोटी वस्तु; 'चडवेलावज्जपट्टपाराई' (?) ई) 'द्विकसंलयवरत्तनेत्तपहारसपत्तातिचं-गमंगा' (पण्ड २, ३) ।  
 पाराय देखो पाराय्य (प्राप्र) ।  
 पारायण न [पारायण] १ पार-प्राप्ति (विते ५६५) । २ पुराण-पाठ-विशेष; 'अधीउं (?) य) समत्तपरायणो साखापारयो जागो' (सुत्र २, १३) ।  
 पारायय देखो पारेचय (प्राप्र; प्राप्र; गा ६४; कण्ठ ५६ टि) ।

पारावर पुं [दे] गवाक्ष, वातायन (दे ६, ४३)।  
पारावार पुं [पारावार] समुद्र, सागर (पञ्च;  
कुप्र ३७०)।

पाराविअ वि [पारित] जिसको पारण कराया  
गया हो वह (कुप्र २१२)।

पारासर पुं [पाराशर] १ ऋषि-विशेष (सूत्र  
१, ३, ४, ३)। २ न. गोत्र-विशेष, जो  
वशिष्ठ गोत्र की एक शाखा है। ३ वि. उस  
गोत्र में उत्पन्न (डा ७—पत्र ३६०)। ४  
पुं. भिक्षुक। ५ कर्म-स्यागी संन्यासी; 'श्रुतेवि  
पारासरा श्रिय' (सुख २, ३१)।

पारिओसिय वि [पारितोपिक] तुष्टि-जनक  
दान, प्रसन्नता-सूचक दान, पुरस्कार (सम्मत  
१२२; स १६३; सुर १६, १८२; विचार  
१७१)।

पारिच्छा देखो परिच्छा; 'व्यपरिणामे चित्ता  
गिहं समप्येति तासि पारिच्छा' (उप १७३;  
उप पृ २७५)।

पारिच्छेज्ज देखो परिच्छेज्ज (शाया १,  
८—पत्र १३२)।

पारिजाय देखो पारिय = पारिजात (कुमा)।  
पारिष्ठावणिया स्त्री [पारिष्ठापनिकी] समिति-  
विशेष, मल आदि के उत्सर्ग में सम्यक् प्रवृत्ति  
(सम १०; श्रौप; कप्प)।

पारिडि स्त्री [प्रावृत्ति] प्रावरण, वस्त्र, कपड़ा;  
'विक्खिण्ड माहमासम्मि पामरो पारिडि वड-  
झेण' (गा २३८)।

पारिणामिअ देखो परिणामिअ = पारिणामिक  
(अणु; कम्म ४, ६६)।

पारिणामिआ } देखो परिणामिआ (आव  
पारिणामिगी } १; शाया १, १—पत्र ११)।

पारितावणिया स्त्री [पारितापनिकी] दूसरे  
को परिताप—दुःख उपजाने से होनेवाला  
कर्म-बन्ध (सम १०)।

पारितावणी स्त्री [पारितापनी] ऊपर देखो  
(नव १७)।

पारितोसिअ देखो पारिओसिय (नाट; सुपा  
२७; प्रामा)।

पारित्त देखो पारत्त = परत्त; 'पारित्त विड्जओ  
धम्मो' (तंडु ५६)।

पारिप्पव पुं [पारिप्पव] पक्षि-विशेष (पण्ह  
१, १—पत्र ८)।

पारिभद्द पुं [पारिभद्द] वृक्ष-विशेष, फरहद  
का पेड़ (कप्प)।

पारिय वि [पारित] पूर्ण किया हुआ (रयण  
१६)।

पारिय पुं [पारिजात] १ देव-वृक्ष-विशेष,  
कल्प-तरु-विशेष। २ फरहद का पेड़; 'कप्पूर-  
पारियाण य ग्रहियरो मालईगवो' (कुमा  
५, १३)। ३ न. पुष्प-विशेष, फरहद का  
फूल जो रक्त-वर्णों का और अत्यन्त शोभाय-  
मान होता है; 'सुहिण्ण य विडप्पइ पारियच्छि  
सुंठीरहं खंडइ वसइ लच्छि' (भवि)।

पारियत्त पुं [पारियात्त] देश-विशेष, 'परि-  
व्ममंतो पत्तो पारियत्तविसय' (कुप्र ३६६)।

पारियल्ल न [दे. परिवर्त] पहिए के पृष्ठ  
भाग की बाह्य परिधि (एंदि ४३)।

पारियाय देखो पारिय = पारिजात (सुपा  
७६; से ६, ५८; महा; स ७५६)।

पारियावणिया देखो पारितावणिया (डा २,  
१—पत्र ३६)।

पारियावणिया देखो पारियावणिया (स  
५५१)।

पारियासिय वि [पारिवासित] वासी रत्ना  
हुआ (कस)।

पारिव्यज्ज न [पारिवाज्य] संन्यासिन,  
संन्यास (पउम ८२, २४)।

पारिव्वाइ स्त्री [पारिवाजी, परिवाजिका]  
संन्यासिनी (उप पृ २७६)।

पारिव्वाय वि [पारिवाज] संन्यासि-संबन्धी  
(राज)।

पारिसज्ज वि [पारिपद्य] सम्य, सभासद  
(धर्मवि ६)।

पारिसाडणिया स्त्री [पारिशाटनिकी] परि-  
शाटन—परित्याग से होनेवाला कर्म-बन्ध  
(आव ४)।

पारिहच्छी स्त्री [दे] माला (दे ६, ४२)।

पारिहट्ठी स्त्री [दे] १ प्रतिहारी। २ आकृष्टि,  
आकर्षण। ३ चिर-प्रसूता महिषी, बहुत देर  
से व्याधी हुई भैंस (दे ६, ७२)।

पारिहत्थिय वि [पारिहस्तिक] स्वभाव से  
निपुण (डा ६—पत्र ४५१)।

पारिहारिय वि [पारिहारिक] तपस्वी-विशेष,  
परिहार नामक व्रत करनेवाला (कस)।

पारिहासय न [पारिहासक] कुल-विशेष,  
जैन मुनियों के एक कुल का नाम (कप्प)।

पारी स्त्री [दे] दोहन-भाण्ड, जिसमें दोहन  
किया जाता है वह पात्र-विशेष (दे ६, ३७;  
गउड ५७७)।

पारीण वि [पारीण] पार-प्राप्त, 'धोवर-  
सत्थाण पारीणो' (धर्मवि १३; सिरि ४८६;  
सम्मत्त ७५)।

पारुअग्ग पुं [दे] विश्राम (दे ६, ४४)।

पारुअल्ल पुं [दे] पृथुक, चिउड़ा (दे ६, ४४)।

पारुसिय देखो फारुसिय (आचा १, ६,  
४; १ टि)।

पारुहल्ल वि [दे] मालीकृत, श्रेणी रूप से  
स्थापित; 'पालीबंधं च पारुहल्लोम्मि' (दे  
६, ४५)।

पारेवई स्त्री [पारापती] कवूतरी, कवूतर  
की मादा (विपा १, ३)।

पारेवय पुं [पारापत] १ पक्षि-विशेष, कवूतर  
(हे १, ८०; कुमा; सुपा ३२८)। २ वृक्ष-  
विशेष। ३ न. फल-विशेष (पण्ह १७)।

पारोक्ख वि [पारोक्ष] परोक्ष-विषयक,  
परोक्ष-संबन्धी (धर्मसं ५०२)।

पारोह देखो प्रोह (हे १, ४४; गा ५७५;  
गउड)।

पारोहि वि [प्रोहिन्] प्रोहवाला, शंकर-  
वाला (गउड)।

पाल सक [पालय्] पालन करना, रक्षण  
करना। पालेइ (मग; महा)। वड्ठ. पालयंत,  
पालंत, पालित, पालेमाण (सुर २, ७१;  
सं ४६; महा; श्रौप; कप्प)। संकृ. पालइत्ता,  
पालित्ता, पालेऊण (कप्प; महा); पालेवि  
(अप) (हे ४, ४४१)। कृ. पालियव्व,  
पालेयव्व (सुपा ४३५; ३७६; महा)।

पाल देखो पार = पारम्। संकृ. पालइत्ता  
(कप्प)।

पाल पुं [दे] १ कलवार, शरार वेचनेवाला।  
२ वि. जीएँ, फटा-टूटा (दे ६, ७५)।

पाल पुंन [पाल] आभूषण-विशेष, 'पुरवि वा  
पालं वा तिसरयं वा कडिमुत्तमं वा' (श्रौप)।  
२ वि. पालक, पालन-कर्ता; 'जो समयसिधु-  
सायरहो पालु' (भवि)। स्त्री. पाला (वव ४)।

पालक न [पालक्य] तरकारी-विशेष, पालक का शाक (बृह १)।  
 पालंगा व्री [पालक्या] ऊपर देखो (उवा)।  
 पालंत देखो पाल = पालय्।  
 पालंय पुं [पालंय] १ अवलम्बन, सहारा; 'पावइ तडविडविपालंय' (सुपा ६३५)। २ गले का ग्राम्यण-विशेष (श्रौप; कप्प)। ३ दीर्घ, लम्बा (श्रौप; राय)। ४ पुंन. ध्वजा के नीचे लटकता ब्रह्माञ्चल; 'ओऊलं पालंय' (पात्र)।  
 पालका व्री [पालक्या] देखो पालंगा; 'बन्धुलपौरगमजजारपोइवल्ली य पालका' (परण १—पत्र ३५)।  
 पालग देखो पालय (कप्प; श्रौप; वित्ते २८५६; संति १; मुर ११, १०८)।  
 पालग न [पालन] १ रक्षण (महा; प्रासू ३)। २ वि. रक्षण-कर्ता; वम्मस्त पालणी चैव' (संनोव १६; सं ६७)।  
 पालदुह पुं [दे] वृक्ष-विशेष (उप १=३१ वे)।  
 पालप्य पुं [दे] १ प्रतिसार। २ वि. विप्लुत (दे ६, ७६)।  
 पालय वि [पालक] रक्षक, रक्षण-कर्ता (सुपा २७६; सार्थ १०)। २ पुं. सौधमन्द्र का एक आभियौगिक देव (ठा ८)। ३ श्रीकृष्ण का एक पुत्र (पत्र २)। ४ भगवान् महावीर के निर्वाण के दिन अभिषिक्त अवंती (उजैन) का एक राजा (विचार ४६२)। ५ देव-विमान-विशेष (सम २)।  
 पालास पुं [पालाश] पलाश-सम्बन्धी। २ न. पलाश वृक्ष का फल, किशुक-फल (गडड)।  
 पालि व्री [पालि] १ तालाव आदि का वन्य (सुर १३, ३२; अंत १२; महा)। २ प्रान्त भाग (गा ६४६)। देखो पाली = पाली।  
 पालि व्री [दे] १ वान्य मापने की नाप। २ पत्योपम, समय का सुदीर्घ परिमाण-विशेष (उत्त १८, २८; सुख १८, २८)।  
 पालिआ व्री [दे] खडग-मुष्टि, तलवार की मूठ (पात्र)।  
 पालिआ देखो पाली = पाली; उजाणपालि-याहि कविउत्तीहि व बहुरसड्डीहि' (वर्मवि १३)।

पालित्त पुं [पादलिप्त] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य (पिड ४६८; कुप्र १७८)।  
 पालित्ताण न [पादलिप्तीय] सौराष्ट्र देश का एक प्राचीन नगर, जो आजकल भी 'पालिताणा' नाम से प्रसिद्ध है (कुप्र १७६)।  
 पालित्तिआ व्री [दे] १ राजवानी। २ मूल-नीवी। ३ भरडार, निधि। ४ गंगी, प्रकार (कप्प)।  
 पालिय वि [पालित] रक्षित (ठा १०; महा)।  
 पालियाय देखो पारिय = पारिजात (राय ३०)।  
 पाली व्री [पाली] वंक्ति, श्रेणि (गडड)। देखो पालि।  
 पाली व्री [दे] दिशा (दे ६, ३७)।  
 पालीबंध पुं [दे] तालाव, सरोवर (दे ६, ४५)।  
 पालीहम्म न [दे] वृत्ति, वाड़ (दे ६, ४५)।  
 पालेव पुं [पादलेप] पैर में किया हुआ लेप (पिड ५०३)।  
 पाव सक [प्र+आप] प्राप्त करना।  
 पावइ (हे ४, २३६)। भवि. पाविहिसि (पि ५३१)। कर्म. पाविजइ (उव)। वकृ. पावंत, पावंत (पिग; पजम १४, ३७)। कवकृ. पाविचंत, पावेजमाण (परह १, १; अंत २०)। संकृ. पाविऊण (पि ५८६)। हेकृ. पत्तुं, पावेडं (हान्य ११६; महा)। कृ. पावणिज्ज, पाविअव्व (सुर ६, १४२; सं ६८६)।  
 पाव देखो पव्याल = प्लावय्। पावेइ (हे ४, ४१)।  
 पाव पुंन [पाप] १ अशुभ कर्म-पुद्गल; कुकर्म (आत्ता; कुमां ठा १; प्रासू २५); 'जम्मंतरकए पावे पाणी मुहुत्तेए निदहे' (गच्छ १, ६)। २ पापी, श्रवणी, कुकर्मी (परह १, १; कुमा ७, ६)। 'कम्म न [कर्मन्] अशुभ कर्म (आचा)। 'कम्मि वि [कर्मिन्] कुकर्म करनेवाला (ठा ७)। 'दंड पुं [दण्ड] नरकावास-विशेष (देवेन्द्र २६)। 'पगइ व्री [प्रकृति] अशुभ कर्म-प्रकृति (राज)। 'यारि वि [कारिन्] दुराचारी (पजम ६३, ४३; महा)। 'समण पुं [श्रमण] दुष्ट साधु (उत्त १७, ३; ४)। 'सुमिणं पुंन [स्वप्न]

दुष्ट स्वप्न (कप्प)। 'सुय न [श्रुत] दुष्ट शास्त्र (ठा ६)।  
 पाव पुं [दे] सर्प, सांप (दे ६, ३८)।  
 पाव (अप) देखो पत्त = प्राप्त (पिग)।  
 पावंस वि [पापीयस्] पापी, कुकर्मी (ठा ४, ४—पत्र २६५)।  
 पावक्खालय न [दे. पापक्षालक] देखो पाउक्खालय (स ७४१)।  
 पावग वि [पावक] १ पवित्र करनेवाला (राज)। पुं. अग्नि, वहि (सुपा १४२)।  
 पावग वि [प्रापक] पहुँचानेवाला (सुपा ५००)।  
 पावग देखो पाव = पाप (आचा; वर्मसं ५४३)।  
 पावजा (अप) देखो पव्वजा (भवि)।  
 पावडण देखो पाय-वडण = पाद-पतन (प्राप्र-कुमा)।  
 पावडिइ देखो पारडि (सिरि ११०८; १११०)।  
 पावण वि [पावन] पवित्र करनेवाला (अच्छु ४७; समु १५०)।  
 पावण न [प्लावन] १ पानी का प्रवाह। २ सरावोर करना (पिड २४)।  
 पावण न [प्रापण] १ प्राप्ति, लाभ (सुर ४, १११; उपपं ७)। २ योग की एक सिद्धि; 'पावणसत्तीए छिवइ मेवसिरमंजुलीए मुणी' (कुप्र २७७)।  
 पावडि देखो पारडि (वर्मवि १४८)।  
 पावय देखो पाव = पाप (प्रासू ७५)।  
 पावय वि [प्रावृत] आच्छादित, ढका हुआ (सूत्र २, ७; ३)।  
 पावय पुंन [दे] वाद्य-विशेष, गुजराती में 'पावो' (पजम ५७, २३)।  
 पावय देखो पावग = पावक (उप ७२८ टी; कुप्र २८३; सुपा ४; पात्र)।  
 पावयण देखो पवयण (हे १, ४४; उवा; राया १, १३)।  
 पावयणि वि [प्रवचनिन्] सिद्धान्त का जानकार, सैद्धान्तिक (चिद्वय १२८)।  
 पावयणिय वि [प्रवचनिक] ऊपर देखो (सम ६०)।  
 पावरअ देखो पावारय (स्वप्न १०४)।

पावरण पुं [प्रावरण] एक म्लेच्छ जाति (मृच्छ १५२) ।  
 पावरण न [प्रावरण] वस्त्र, कपड़ा (हे १, १७५) ।  
 पावरिय वि [प्रावृत] आच्छादित (कुप्र ३८) ।  
 पावस देखो पाउस (कुप्र ११७) ।  
 पावा बी [पापा] नगरी-निशेष, जो आजकल भी विहार के पास पावापुरी के नाम से प्रसिद्ध है (कम्प; ती ३; पंचा १६, १७; पत्र ३४; विचार ४६) ।  
 पावाइ वि [प्रवादिन्] वाचाट, दार्शनिक (सूत्र २, ६, ११) ।  
 पावाइअ वि [प्रात्राजिक] संन्यासी (रयण २२) ।  
 पावाइअ वि [प्रावादिक] देखो पावाइ (आचा) ।  
 पावाइअ } वि [प्रावादुक] वाचाट, दार्शनिक  
 पावाइअ } निक (सूत्र १, १, ३, १३; २, २, ८०; पि २६५) ।  
 पावार पुं [प्रावार] १ बँधावाला कपड़ा । २ मोटा कम्बल (पत्र ८४) ।  
 पावारय देखो पारय = प्रावारक (हे १ २७१; कुमा) ।  
 पावालिया बी [प्रपापालिका] प्रपा या प्याऊ पर नियुक्त बी (गा १६१) ।  
 पावासु } वि [प्रवासिन्, क] प्रवास  
 पावासुअ } करनेवाला (पि १०५; हे १, ६५; कुमा) ।  
 पाविअ वि [प्राप्त] लब्ध, मिला हुआ (सुर ३, १६; स ६८६) ।  
 पाविअ वि [प्रापित] प्राप्त करवाया हुआ (सण; नाट—मृच्छ २७) ।  
 पाविअ वि [प्लावित] सराबोर किया हुआ, खूब मिजाया हुआ (कुमा) ।  
 पाविट्ट वि [पापिट्ट] अत्यन्त पापी (उव ७२८; टो; सुर १, २१३; २, २०५; सुपा १६६; आ १४) ।  
 पावीठ देखो पाय-वीठ (पचम ३, १; हे १, २७०; कुमा) ।  
 पावीयंस देखो पावंस (पि ४०६; ४१४) ।  
 पावुअ वि [प्रावृत] आच्छादित (संखि ४) ।  
 पावेजमाण देखो पाव = प्र + आप ।

पावेस वि [प्रावेश] प्रवेशोचित, प्रवेश के लायक (श्रीप) ।  
 पावेस पुं [प्रावेश] वक्र के दोनों तरफ लटकता रूँडा (गाथा १, १) ।  
 पास सक [दृश] १ देखना । २ जानना ।  
 पासइ, पासेइ (कम्प) । पासिमं = पश्य (आचा १; ३, ३, ५) । कर्म-पासिजइ (पि ७०) । वक्र-पासंत, पासमाण (स ७५; कम्प) । संक्र-पासिउं, पासित्ता, पासित्ताणं, पासिया (पि ४६५; कम्प; पि ५८३; महा) । हेक्र-पासित्तए, पासिउं (पि ५७८; ५७७) । कृ-पासियव्व (कम्प) ।  
 पासं पुं [पार्श्व] १ वर्तमान अवसर्पिणी-काल के तेईसवें जिन-देव (सम १३; ४३) । २ भगवान् पार्वनाथ का अधिष्ठायक यज्ञ (संति ८) । ३ न. कन्वा के नीचे का भाग, पॉंजर (गाथा १, १६) । ४ समीप, निकट (सुर ४; १७६) । 'अचिञ्ज वि [पत्तीय] भगवान् पार्वनाथ की परम्परा में संजात (भाग) ।  
 पासं पुं [पाश] फाँसा, बन्धन-रज्जू (सुर ४, ३३७; श्रीप; कुमा) ।  
 पास न [दे] १ आँख । २ दाँत । ३ कुन्त, प्राप्त । ४ वि. विशोभ, कुडौल, शोभा-हीन (दे ६, ७५) । ५ पुंन. अन्य वस्तु का अल्प-मिश्रण; 'निचुत्तो तंवल्लो पासेण विणा न होइ जह रंगो' (भाव २) ।  
 पास वि [पारा] अपसद, निकट, जघन्य, कुत्सित; 'एस पासंडियपासो कि करिस्सइ' (सम्मत् १०२) ।  
 पासंगिअ वि [प्रासङ्गिक] प्रसंग-संबन्धी, आनुपंगिक (कुम्मा २७) ।  
 पासंड न [पासण्ड] १ पाखण्ड, असत्य धर्म, धर्म का ढोंग (ठा १०; गाथा १, ८; उवा; श्राव ६) । २ व्रत (अणु) ।  
 पासंडि } वि [पासण्डिन्, क] १  
 पासंडिय } पासंडी, लोक में पूजा पाने के लिए धर्म का ढोंग, रचनेवाला (महानि ४; कुप्र २७६; सुपा ६६; १०६; १६२) । २ पुं-व्रती, साधु, मुनि; 'पव्वइए अणुगारे पासंडे' (? डी) चरण तावसे भिक्खु । परिव्वाइए य समणे' (दसनि २—गाथा १६४) ।

पासंदण न [प्रस्यन्दन] झरन, टपकना (बृह १) ।  
 पासग वि [दर्शक] देखनेवाला (आचा) ।  
 पासग पुं [पाशक] १ फाँसा, बन्धन-रज्जू (उप ४ १३; सुर ४, २५०) । २ पासा, जुआ खेलने का उपकरण-विशेष (जं ३) ।  
 पासग न [पाशक] कला-विशेष (श्रीप) ।  
 पासण न [दर्शन] अवलोकन, निरीक्षण (पिड ६७५; उप ६७७; ओष ५४; सुपा ३७) ।  
 पासणया बी. ऊपर देखो (ओष ६३; उप १४८; गाथा १, १) ।  
 पासणिअ वि [दे] साक्षी (दे ६, ४१) ।  
 पासणिअ वि [प्राशिनक] प्रश्न-कर्ता (सूत्र १, २, २, २८; आचा) ।  
 पासस्थ वि [पार्श्वस्थ] १ पार्श्व में स्थित, निकट-स्थित (पचम ६८, १८; स २६७; सूत्र १, १, २, ५) । २ शिथिलाचारी साधु (उप ८३३; टो; गाथा १, ५; ६—पत्र २०६; सार्धं ८८) ।  
 पासस्थ वि [पाशस्थ] पाश में फाँसा हुआ, पाशित (सूत्र १, १, २, ५) ।  
 पासल्ल न [दे] १ द्वार (दे ६, ७६) । २ वि. तिर्यक्, वक्र (दे ६, ७६; से ६; ६२; गउड) ।  
 पासल्ल देखो पास = पारवं (से ६, ३८, गउड) ।  
 पासल्ल अक [तिर्यच्छ, पार्श्वार्थ] १ वक्र होना । २ पार्श्व घुमाना; 'पासल्लंति महिहरा' (से ६, ४५) । वक्र-पासल्लंत (से ६, ४१) ।  
 पासल्लइअ देखो पासल्लिअ (से ६, ७७) ।  
 पासल्लि वि [पार्थिन्] पार्श्व-शयित, 'उत्ताण-गपायल्ली नेसजी वावि ठाण ठाइत्ता' (पत्र ६७; पंचा १८, १५) ।  
 पासल्लिअ वि [पार्थित, तिर्यक्त] १ पार्श्व में किया हुआ । २ टेढ़ा किया हुआ (गउड; पि ५६५) ।  
 पासवण न [प्रस्रवण] मूत्र, पेशाब (सम १०; कस; कम्प; उवा; सुपा ६२०) ।  
 पासाईय देखो पासादीय (सम १३७; उवा) ।  
 पासाकुसुम न [पाशाकुसुम] पुष्प-विशेष, 'छपप्र गम्मसु सित्तिरं पासाकुसुमेहि ताव, मा मरसु' (गा ८१६) ।

पासाण पुं [पापाण] पत्वर (हे १, २६२; कुमा)।

पासाणिअ वि [दे] सानी (दे ६, ४१)।

पासाद् देखो पासाय (श्रौप; स्वप्न ५६)।

पासादिय वि [प्रसादित] १ प्रसन्न किया हुआ। २ न. प्रसन्न करना (साया १, ६—पत्र १६५)।

पासादीय वि [प्रासादीय] प्रसन्नता-जनक (उवा; श्रौप)।

पासादीय वि [प्रासादित] महलवाला, प्रासाद-युक्त (भूय २, ७, १ टी)।

पासाय पुंन [प्रासाद्] महल, हर्म्य (पाय; पउम ८०, ४)। °वडिसय पुं [°वतंसक] श्रेष्ठ महल (भग; श्रौप)।

पासायवडंसग पुं [प्रासादावतंसक] श्रेष्ठतम महल, प्रासाद-विशेष (राय ६६)।

पासासा स्त्री [दे] भल्ली, छोटा भाला (दे ६, १४)।

पासाय पुं [दे] गवाक्ष, वातायन, झरोखा पासायय (पड; दे ६, ४३)।

पासि वि [पार्थिव] पार्थस्य, शिथिलाचारी साधु; 'पासिसारिच्छो' (संबोध ३५)।

पासिद्धि देखो पसिद्धि (हे १, ४४)।

पासिम वि [दृश्य] दर्शनीय, ज्ञेय (आचा)।

पासिमं देखो पास = दृश्।

पासिय वि [पाशिक] फासे में फँसानेवाला (पएह १, २)।

पासिय वि [स्पृष्ट] छुआ हुआ (आचा—पासिम)।

पासिय वि [पाशित] पाश-युक्त (राज)।

पासिया स्त्री [पाशिका] छोटा पाश (महा)।

पासिया देखो पास = दृश्।

पासिह वि [पार्थिक] १ पास में रहनेवाला। २ पार्थशायी (पव ५४; तंडु १३; भग)।

पासी स्त्री [दे] बूडा, चोटी (दे ६, ३७)।

पासु देखो पंसु (हे १, २६; ७०)।

पासुत्त देखो पसुत्त (गा ३२४; सुर २, ८२; ६, १६८; हे १, ४४; कुप्र २५०)।

पासेइय वि [प्रस्वेदित] प्रस्वेद-युक्त, पसीना-वाला (भवि)।

पासेइयि वि [पार्थवत्] पार्थ-शायी, बगल में सोनेवाला (राज)।

पासोअह देखो पासह = तिर्यञ्च। बह्।

पासोअहंत (से ६, ४७)।

पाह (अप) सक [प्र + अर्थय्] प्रार्थना करना। पाहति (पि ३५६)।

पाहंड देखो पासंड (पि २६५)।

पाहण देखो पाहाण; 'महंतं पाहणं तयं' (आ १२); 'चउकोणा समतीरा पाहणवद्धा य निम्माविया' (धर्मवि ३३; महा; भवि)।

पाहणा देखो पाणहा; 'तिगिच्छं पाहणा पाए' (दस ३, ४)।

पाहण्ण न [प्राधान्य] प्रवानता, प्रवानपन पाहण्ण (प्रासु ३२; श्रौप ७७२)।

पाहर सक [प्रा + ह] प्रकर्ष से लाना, ले आना। पाहराहि (सुप्र, ४, २, ६)।

पाहरिय वि [प्राहरिक] पहरदार (स ५२५; सुपा ३१२; ४५५)।

पाहाउय देखो पाभाइय (सुपा ३५; ५५६)।

पाहाण पुं [पापाण] पत्वर (हे १, २६२; महा)।

पाहिज्ज देखो पाहेज्ज (पाय)।

पाहुड न [प्राभृत] १ उपहार, पाहुर, भेंट (हे १, १३१; २०६; विपा १, ३; कपूर २७, कपू; महा; कुमा)। २ जैन ग्रन्थांश-विशेष, परिच्छेद, अव्ययन (सुज १; २; ३)। ३ प्राभृत का ज्ञान (कम्म १, ७)। °पाहुड न [°प्राभृत] १ ग्रन्थांश-विशेष, प्राभृत का भी एक अंश (सुज १, १; २)। २ प्राभृत-प्राभृत का ज्ञान (कम्म १, ७)। °पाहुडस-

मास पुंन [°प्राभृतसमास] अनेक प्राभृत-प्राभृतों का ज्ञान (कम्म १, ७)। °समास पुंन [°समास] अनेक प्राभृतों का ज्ञान (कम्म १, ७)।

पाहुड न [प्राभृत] १ क्लेश, कलह (कस; बृह १)। २ दृष्टिवाद के पूर्वों का अध्याय-विशेष (अणु २३४)। ३ सावय कर्म, पाप-क्रिया (आचा २, २, ३, १; वव १)। °छेय पुं [°च्छेद्] वारहूँ अंग-ग्रन्थ के पूर्वों का प्रकरण-विशेष (वव १)। °पाहुडिआ स्त्री [°प्राभृतिका] दृष्टिवाद का प्रकरण-विशेष (अणु २३४)।

पाहुडिआ स्त्री [प्राभृतिका] १ दृष्टिवाद का छोटा अध्याय (अणु २३४)। २ अर्चनिका, विलेपन आदि (वव ४)।

पाहुडिआ स्त्री [प्राभृतिका] १ भेंट, उपहार (पव ६७)। २ जैन मुनि की भिक्षा का एक दोप, विवक्षित समय से पहले—मन में संकल्पित भिक्षा, उपहार रूप से दी जाती भिक्षा (पंचा १३, ५; पव ६७; ठा ३, ४—पत्र १५६)।

पाहुण वि [दे] विक्रय; बेचने की वस्तु (दे ६, ४०)।

पाहुण पुं [प्राघुण, °क] अतिथि, पाहुना-पाहुणग } मेहमान (श्रौषमा ५३; सुर ३, ८५; पाहुणय } महा; सुपा १३; कुप्र ४२; श्रौप; काल)।

पाहुणिअ पुं [प्राघुणिक] अतिथि, पाहुना, मेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पुं [प्राधुनिक] ग्रह-विशेष; ग्रहा-चिष्टायक देव-विशेष (ठा २, ३)।

पाहुणिज्ज वि [प्राहवन्तीय] प्रकृत संप्रदान, जिसको दान दिया जाय वह (साया १, १ टी—पत्र ४)।

पाहुण्ण न [प्राघुण्य, °क] अतिथ्य, पाहुण्णग } अतिथि का सत्कार, पाहुनाई; पाहुण्णय } 'कयं मंजरीए पाहुण(? एण)न' (कुप्र ४२; उप १०३१ टी)।

पाहेअ न [पाथेय] रास्ते में व्यय करने की सामग्री, मुसाफिरी में खाने का भोजन (उत्त १६, १८; महा; अभि ७६; स ६८; सुपा ४२४)।

पाहेज्ज न [दे. पाथेय] ऊपर देखो (दे ६, २४)।

पाहेणग (दे) देखो पहेणग (पिड २८८)।

पि देखो अवि (हे २, २१८; स्वप्न ३७; कुमा; भवि)।

पिअ सक [पा] पीना। पिअइ (हे ४, १०; ४१६; गा १६१)। भूका, अपिइत्य (आचा)। वह्. पिअंत, पियमाण (गा १३ अ; २४६; से २, ५; विपा १, १)। संक. पिच्चा, पेच्चा, पिएऊण (कप्प; उत्त १७, ३; धर्मवि २५), पिएचिणु (अप) (सण)। प्रयो. पियावए (दस १०, २)।

पिअ पुं [प्रिय] १ पति, कान्त, स्वामी (कुमा)। २ वि. इष्ट, प्रीति-जनक (कुमा)। °अम पुं [°तम] पति, कान्त (गा १६;

पाहुडिआ स्त्री [प्राभृतिका] १ भेंट, उपहार (पव ६७)। २ जैन मुनि की भिक्षा का एक दोप, विवक्षित समय से पहले—मन में संकल्पित भिक्षा, उपहार रूप से दी जाती भिक्षा (पंचा १३, ५; पव ६७; ठा ३, ४—पत्र १५६)।

पाहुण वि [दे] विक्रय; बेचने की वस्तु (दे ६, ४०)।

पाहुण पुं [प्राघुण, °क] अतिथि, पाहुना-पाहुणग } मेहमान (श्रौषमा ५३; सुर ३, ८५; पाहुणय } महा; सुपा १३; कुप्र ४२; श्रौप; काल)।

पाहुणिअ पुं [प्राघुणिक] अतिथि, पाहुना, मेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पुं [प्राधुनिक] ग्रह-विशेष; ग्रहा-चिष्टायक देव-विशेष (ठा २, ३)।

पाहुणिज्ज वि [प्राहवन्तीय] प्रकृत संप्रदान, जिसको दान दिया जाय वह (साया १, १ टी—पत्र ४)।

पाहुण्ण न [प्राघुण्य, °क] अतिथ्य, पाहुण्णग } अतिथि का सत्कार, पाहुनाई; पाहुण्णय } 'कयं मंजरीए पाहुण(? एण)न' (कुप्र ४२; उप १०३१ टी)।

पाहेअ न [पाथेय] रास्ते में व्यय करने की सामग्री, मुसाफिरी में खाने का भोजन (उत्त १६, १८; महा; अभि ७६; स ६८; सुपा ४२४)।

पाहेज्ज न [दे. पाथेय] ऊपर देखो (दे ६, २४)।

पाहेणग (दे) देखो पहेणग (पिड २८८)।

पि देखो अवि (हे २, २१८; स्वप्न ३७; कुमा; भवि)।

पिअ सक [पा] पीना। पिअइ (हे ४, १०; ४१६; गा १६१)। भूका, अपिइत्य (आचा)। वह्. पिअंत, पियमाण (गा १३ अ; २४६; से २, ५; विपा १, १)। संक. पिच्चा, पेच्चा, पिएऊण (कप्प; उत्त १७, ३; धर्मवि २५), पिएचिणु (अप) (सण)। प्रयो. पियावए (दस १०, २)।

पिअ पुं [प्रिय] १ पति, कान्त, स्वामी (कुमा)। २ वि. इष्ट, प्रीति-जनक (कुमा)। °अम पुं [°तम] पति, कान्त (गा १६;

पिअ पुं [प्रिय] १ पति, कान्त, स्वामी (कुमा)। २ वि. इष्ट, प्रीति-जनक (कुमा)। °अम पुं [°तम] पति, कान्त (गा १६;

पिअ पुं [प्रिय] १ पति, कान्त, स्वामी (कुमा)। २ वि. इष्ट, प्रीति-जनक (कुमा)। °अम पुं [°तम] पति, कान्त (गा १६;

पिअ पुं [प्रिय] १ पति, कान्त, स्वामी (कुमा)। २ वि. इष्ट, प्रीति-जनक (कुमा)। °अम पुं [°तम] पति, कान्त (गा १६;

पिअ पुं [प्रिय] १ पति, कान्त, स्वामी (कुमा)। २ वि. इष्ट, प्रीति-जनक (कुमा)। °अम पुं [°तम] पति, कान्त (गा १६;

पिअ पुं [प्रिय] १ पति, कान्त, स्वामी (कुमा)। २ वि. इष्ट, प्रीति-जनक (कुमा)। °अम पुं [°तम] पति, कान्त (गा १६;

पिअ पुं [प्रिय] १ पति, कान्त, स्वामी (कुमा)। २ वि. इष्ट, प्रीति-जनक (कुमा)। °अम पुं [°तम] पति, कान्त (गा १६;

पिअ पुं [प्रिय] १ पति, कान्त, स्वामी (कुमा)। २ वि. इष्ट, प्रीति-जनक (कुमा)। °अम पुं [°तम] पति, कान्त (गा १६;

पिअ पुं [प्रिय] १ पति, कान्त, स्वामी (कुमा)। २ वि. इष्ट, प्रीति-जनक (कुमा)। °अम पुं [°तम] पति, कान्त (गा १६;

कुमा) । °अमा लो [°तमा] पत्नी, भार्या (कुमा) । °अर वि [°कर] प्रीति-जनक (नाट—पिग) । °कारिणी लो [°कारिणी] भगवान् महावीर की माता का नाम, त्रिशला देवी (कल्प) । °गंय पुं [°ग्रन्थ] एक प्राचीन जैन मुनि, आचार्य सुखित और सुप्रतिवद का एक शिष्य (कल्प) । °जाअ वि [°जाय] जिसको पत्नी प्रिय हो वह (गा ५१८) । °जाआ लो [°जाया] प्रेम-मात्र पत्नी (गा १६६) । °दंसण वि [°दर्शन] १ जिसका दर्शन प्रिय—प्रीतिकर हो वह (गाया १, १—पत्र १६; औप) । २ पुं. देव-विशेष (वा २, ३—पत्र ७६) । °दंसणा लो [°दर्शना] भगवान् महावीर की पुत्री का नाम (आवम) । °धम्म वि [°धर्मन्] १ धर्म की श्रद्धावाला (गाया १, ८) । २ पुं. श्री रामचन्द्र के साथ जैन दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पउम ८५, ५) । °भाउग पुं [°भ्रातृ] पति का भाई (उप ६४८ टी) । °भासि वि [°भाषिन्] प्रिय-वक्ता (महा ५८) । °मित्त पुं [°मित्र] १ एक जैन मुनि, जो अपने पीछले भव में पाँचवाँ वासुदेव हुआ था (पउम २०, १७१) । °मेलय वि [°मेलक] १ प्रिय का मेल—संयोग करानेवाला । २ न. एक तीर्थ (स ५५१) । °उय वि [°गुणक] जीवित-प्रिय (आचा) । °यग वि [°यत, °त्मक] आत्म-प्रिय (आचा) ।

पिअ देखो पीअ; 'पीयापीअं पिआपिअं' (प्राप्रः सणः भवि) ।

पिअ° देखो पिउ (प्रासू ७६; १०८) । °हर न [°गृह] पिता का घर, पीहर, नैहर, मैका (पउम १७, ७) ।

पिअआ देखो पिआ (आ १६) ।

पिअइउ (अप) वि [°प्रीणयित्तु] प्रीति उप-जानेवाला, खुश करनेवाला (भवि) ।

पिअउहिय (अप) देखो पिआ (भवि) ।

पिअंकर वि [°प्रियंकर] १ अभीष्ट-कर्ता, इष्ट-जनक (उत्त ११, १४) । २ पुं. एक चक्रवर्ती राजा (उप ६७२) । ३ रामचन्द्र के पुत्र लव को पूर्व जन्म का नाम (पउम १०४, ३६) ।

पिअंगु पुं [°प्रियङ्गु] १ वृक्ष-विशेष, प्रियंगु, ककूदनी का पेड़ (पाप्रः औप; सम १५२) । २ कंगु, मालकांगनी का पेड़; 'पियंगुणो कंगु' (पाप्र) । ३ लो. एक लो का नाम (विवा १, १०) । °लइया लो [°लतिका] एक लो का नाम (महा) ।

पिअंवर वि [°प्रियंवर] मधुर-भाषी (सुर १, ६५; ४, ११८; महा) ।

पिअंवाइ वि [°प्रियवादिन्] ऊपर देखो (उत्त ११, १४; सुख ११, १४) ।

पिअण न [°दे] दुग्ध, दूध (दे ६, ४८) ।

पिअण न [°पान] पीना; 'तुहयन्नपियणनिरयं' (धर्मवि १२५; सुख ३, १; उप १३६ टी; स २६३; सुपा २४५; चेइय ५७०) ।

पिअणा लो [°पृतना] सेना-विशेष, जिसमें २४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घोड़े और १२१५ प्यादे हो वह लश्कर (पउम ५६, ६) ।

पिअमा लो [°दे] प्रियंगु वृक्ष (दे ६, ४६; पाप्र) ।

पिअमाहवो लो [°दे] कोकिला, पिकी (दे ६, ५१; पाप्र) ।

पिअय पुं [°प्रियक] वृक्ष-विशेष; विजयसार का पेड़ (औप) ।

पिअर पुंन [°पितृ] १ माता-पिता, मां-बाप; 'सुणंतु निरणयमिमं पियरा', 'पियराइं वयं-ताइं' (धर्मवि १२२) । २ पुं. पिता, बाप (प्राप्र) ।

पिअरंज सक [°भञ्ज] भांगना, तोड़ना । पिअरंजइ (प्राह्. ७४) ।

पिअल (अप) देखो पिअ = प्रिय (पिग) ।

पिआ लो [°प्रिया] पत्नी, कान्ता, भार्या (कुमा; हेका ६६) ।

पिआमह पुं [°पितामह] १ ब्रह्मा, चतुरानन (सि १, १७; पाप्रः उप ५६७ टी; स २३१) । २ पिता का पिता, दादा (उव) । °तणअ पुं [°तनय] जाम्बवान्, वानर-विशेष (सि ४, ३७) । °त्य न [°त्त] अन्न-विशेष, ब्रह्मान्न (सि १५, ३७) ।

पिआमही लो [°पितामही] पिता की माता, दादी (सुपा ४७२) ।

पिआर (अप) । वि [°प्रियतर] प्यारा (कुप्र ३२; भवि) ।

पिआरी (अप) लो [°प्रियतरा] प्यारी, प्रिया, पत्नी (पिग) ।

पिआल पुं [°प्रियाल] वृक्ष-विशेष, पियाल, चिरौजी का पेड़ (कुमा; पाप्र; दे ३, २१; परण १) ।

पिआलु पुं [°प्रियालु] वृक्ष-विशेष, खिनी, खिरनी का गाछ (उर २, १३) ।

पियासा देखो पिवासा (गा ८१४) ।

पिइ देखो पीइ; 'तेणं पिइए सिट्ठं' (पउम ११, १४) ।

पिइ पुं [°पितृ] १ पिता, बाप (उप ७२८ टी) । २ मघा-नक्षत्र का अधिप्रायक देव (सुख १०, १२; वि ३६१) । °मेह पुं [°मेध] यज्ञ-विशेष, जिसमें बाप का होम किया जाय वह यज्ञ (पउम ११, ४२) । °वग न [°वन] श्मशान (सुपा ३५६) । °हर न [°गृह] पिता का घर, पीहर (पउम १८, ७; सुर ६, २३६) । देखो पिंड ।

पिइज्ज पुं [°पितृज्य] चाचा, बाप का भाई; 'सुपासो वीरजिएपिइज्जो (? ज्ज)' (विचार ४७८) ।

पिइय वि [°पैतृक] पिता का, पितृ-संबन्धी (भग) ।

पिउ } पुं [°पितृ] १ बाप, पिता (सुर १, पिउअ } १७६; औप; उव; हे १, १३१) ।

२ पुंन. मां बाप, माता-पिता; 'अनया मह पिऊणि गामं पत्ताइं' (धर्मवि १४७ सुपा ३२६) । °कम्म पुं [°क्रम] पितृ-वंश, पितृ-कुल (कुमा) । °कुल न [°कुल] पिता का वंश (पड्) । °घर न [°गृह] पिता का घर, पीहर (सुपा ६०१) । °च्छा, °च्छी लो [°ष्वस्तृ] पिता की वहिन, फूया, वृथा, फूफू (गा ११०; हे २, १४२; पाप्रः गाया १; १६), 'कोति पित्तिय (? च्छि) सक्कारेइ' (गाया १, १६—पत्र २१६) ।

°पिंड पुं [°पिण्ड] मृतक-भोजन, श्राद्ध में दिया जाता भोजन (आचा २, १, २) । °भगिणी लो [°भगिनी] फूफी, पिता की वहिन (सुर ३, ८२) । °वइ पुं [°पति] यम, यमराज (हे १, १३४) । °वण न [°वन] श्मशान (पउम १०५, ५१; पाप्रः हे १, १३४) । °सिआ लो [°ष्वस्तृ] फूफी (हे

२, १४२; कुमा) °सेणकण्हा लो [°सेन-  
कृष्णा] राजा बेणिक की एक पत्नी (अंत  
२५)। °स्मिया देखो °मिआ (विषा १,  
३—पत्र ४१)। °हर देखो °घर (सुर १०,  
१६; भवि)।

पिउअ देखो पिउय (राज)।

पिउआ लो [दे.पितृष्वम्] कूको, पिता की  
वहिन (पड)।

पिउआ } लो [दे] सखी, वयस्या (पड १७५;  
पिउच्छा) २१०)।

पिउली लो [दे] १ कर्पास, कपास। २ तुल-  
लतिका, लई की पुनी (दे ६, ७८)।

पिउल्ल देखो पिउ (हे २, १६४)।

पिंकार पुं [अपिंकार] १ 'अपि' शब्द। २  
अपि शब्द की व्याख्या (ठा १०—पत्र  
४६५)।

पिंखा लो [प्रेङ्खा] हिडोला, डोला (पाय)।

पिंखोल सक [प्रेङ्खेल्य] कूलना। वड.  
पिंखोलमाण (राज)।

पिंग देखो पंग = ग्रह (कुमा ७, ४६)।

पिंग पुं [पिङ्ग] १ कपिस बणं, पीत, बणं।  
२ वि. पीला, पीत रंग का (पाय: कुमा:  
एनि १४)। ३ पुंलो: कपिजल, पक्षी। लो.  
°गा (सुम १, ३, ४, १२)।

पिंगां पुं [दि] मकंड, बन्दर (दे ६, ४८)।

पिंगल पुं [पिङ्गल] १ नील-पीत बणं। २  
वि. नील-मिश्रत पीत-बणंवाला (कुमा: ठा  
४, २; श्रौप)। ३ पुं, ग्रह-विशेष (ठा २,  
३)। ४ एक यल (तिरि ६६६)। ५ चक्र-  
वर्ती का एक निधि, ग्रामपण्यों की पुति करने-  
वाला एक निवान (ठा ६; उय ६८६ टी)।  
६ कृष्ण पुद्गल-विशेष (सुज २०)। ७  
प्राकृत-पिंगल का कर्ता एक कवि (पिग)। ८  
एक जैन उपासक (भग)। ९ न. प्राकृत का  
एक छन्द-ग्रंथ (पिग)। °कुमार पुं [°कुमार]  
एक राजकुमार, जिसने भगवान् सुपारवनाय  
के समीप दोहा ली थी (सुपा ६६)। °दख  
वि [°दख] १ नीली-पीली आंखवाला (ठा  
४, २—पत्र २०८)। २ पुं, पद्मि-विशेष  
(परह १, १; श्रौप)।

पिंगलायण न [पिङ्गलायन] १ गोत्र-विशेष,  
जो कौस गोत्र की एक शाखा है। २ पुंलो.  
उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७)।

पिंगलिअ वि [पिङ्गलित] नीला-पीला किया  
हुआ (से ४, १८; गउड; सुपा ८०)।

पिंगलिअ वि [पिङ्गलिअ] पिगल-संबन्धी  
(पिग)।

पिंगा देखो पिंग।

पिंगायण न [पिङ्गयन] नया-नयन का गोत्र  
(इक)।

पिंगिअ वि [गृहीत] ग्रहण किया हुआ  
(कुमा)।

पिंगिम पुंलो [पिङ्गिमय] पिंगता, पीलापन  
(गउड)।

पिंगीकय वि [पिङ्गीकृत] पीला किया हुआ,  
'अणयणपुसिणिकुप्यंकरिगीकय व' (सुह्रम  
७)।

पिंगुल पुं [पिङ्गुल] पक्षि-विशेष (परह १,  
१—पत्र ८)।

पिंचु पुंलो [दे] पच करोर, पक्का करोर  
(दे ६, ४६)।

पिंङ्ग } देखो पिच्छ (आचा: गउड, सुपा  
पिंङ्गड) ६४१)।

पिंङ्गो लो [पिच्छो] साधु का एक उपकरण,  
'भवि लेइ जिणा पिंङ्गो (°पिंङ्ग)' (विचार  
१२८)।

पिंङ्गोला लो [दे] मुँह के पवन से बजाया  
जाता तुण-नय वाद्य-विशेष (दे ६, ४७)।

पिंज सक [पिंज्] पीजना, लई का धुनना।  
वड. पिंजंत (पिड ५७४; श्रौव ४६८)।

पिंजण न [पिंजण] पीजना (पिड ६०३;  
दे ७, ६३)।

पिंजर पुं [पिंजर] १ पीत-रक्त बणं, रक्त-  
पीत-मिश्रित रंग। २ वि. रक्त-पीत बणं-  
वाला (गउड; कुप्र ३०७)।

पिंजर सक [पिंजरय्] रक्त-मिश्रित पीत-  
बणं-युक्त करना। वड. पिंजरयंत (पउम  
६२, ६)।

पिंजरण न [पिंजरण] रक्त-मिश्रित पीत-  
बणंवाला करना (सण)।

पिंजरिअ वि [पिंजरित] पिंजर बणंवाला  
किया हुआ (हम्मोर १२, गउड; सुपा  
५२४)।

पिंजरुड पुं [दे] पक्षि-विशेष, नारुड पक्षी,  
जिसके दो मुँह होते हैं (दे ६, ५०)।

पिंजिअ वि [पिंजित] पीजा हुआ (दे ७,  
६४)।

पिंजिअ वि [दे] विधुत (दे ६, ४६)।

पिंड सक [पिण्डय्] १ एकत्रित करना,  
संरिलप्ट करना। २ प्रक. एकत्रित होना,  
मिलना। पिण्डे, पिण्डय (उय: पिड ६६)।  
संक्र. पिण्डिऊण (कुमा)।

पिंड पुं [पिण्ड] १ कठिन द्रव्यों का संस्लेग  
(पिरउमा २)। २ समूह, संघात (श्रौव  
४०७; विते ६००)। ३ गुड़ वगैरह की बनी  
हुई गोल वस्तु, वस्तुसाकार पदार्थ (परह २,  
५)। ४ मित्रा में मिलता आहार, मित्रा  
(उय: ठा ७)। ५ देह का एक देश। ६ देह,  
शरीर। ७ घर का एक देश। ८ मंत्र का  
गोला जो पितरों के उद्देश्य से दिया जाता है।  
९ गन्ध-द्रव्य विशेष, सिङ्क। १० जपा-  
पुष्प। ११ कवल, प्राय। १२ गज-कुम्भ।  
१३ मदनक वृक्ष, दमनक का पेड़। १४ न.  
प्राचीनिका। १५ लोहा। १६ धातु, पितरों  
को दिया जाता दान। १७ वि. संहत्। १८  
घन, निविड (हे १, ५५)। °कल्पिअ वि  
[°कल्पिक] संव्या निर्दोष मित्रा लेनेवाला  
(वव ३)। °गुला लो [°गुला] गुड़-विशेष,  
इधुरस का विकार-विशेष, शक्कर बतने के  
पहले की अवस्था-विशेष (पिड २८३)। °घर  
न [°गृह] कदम से बना हुआ घर (वव ४)।  
°त्य पुं [°स्थ] जिन भगवान् की अवस्था-  
विशेष: 'न पिडत्यपयत्यावदन्तरभावणा सन्म'  
(संघोव २)। °त्य पुं [°त्य] समुदायार्थ  
(राज)। °दान न [°दान] पिरउ देने की  
क्रिया, धातु (घमंवि २६)। °पयडि लो  
[°प्रकृति] अवान्तर नेदवाली प्रकृति (कम्म  
१, २५)। °वद्वण न [°वर्धन] आहार-वृद्धि,  
कवल-वृद्धि, यत्न-प्राप्तन (अंत)। वद्वान-  
वण न [°वर्धन] आहार बढ़ाना (श्रौप)  
°वाय पुं [°पाव] मित्रा-दान, आहार-प्राप्ति  
(ठा ५, १, कच)। °वास पुं [°वास]  
सुहृजन (भवि)। °विसुद्धि, °विसोहि लो  
[°विशुद्धि] मित्रा की निर्दोषता (अंत  
श्रौवमा ३)।

पिंडा पुं [पिण्डक] ऊपर देखो (कस) ।  
 पिण्ड न [पिण्डन] १ द्रव्यों का एकत्र संश्लेष (पिण्डभा २) । २ ज्ञानावरणीयादि कर्म (पिंड ६६) ।  
 पिण्डा स्त्री [पिण्डना] १ समूह (श्रौप ४०७) । २ द्रव्यों का परस्पर संयोजन (पिंड २) ।  
 पिण्डय देखो पिंड (श्रौपभा ३३) ।  
 पिण्डरय न [दे] बाडिम, अनार (दे ६, ४८) ।  
 पिण्डलइय वि [दे] पिएडोकृत, पिएडाकार किया हुआ (दे ६, ५४; पात्र) ।  
 पिण्डलग न [दे] पटलक, पुष्प का भाजन (ठा ७) ।  
 पिण्डवाइअवि [पिण्डपातिक, पैण्डपातिक] भक्त-नामवाला, जिसको भिक्षा में आहार की प्राप्ति हो वह (ठा ५, १; कस; श्रौप; प्राकृ ६) ।  
 पिण्डार पुं [पिण्डार] गोप, ग्वाला (गा ७३१) ।  
 पिण्डालु पुं [पिण्डालु] कन्द-विशेष (धा २०) ।  
 पिण्डिं देखो पिंडी (भग; शाया १, १ टी—पत्र ५) ।  
 पिण्डिम वि [पिण्डिम] १ पिएड से बना हुआ, वहल (परहं २, ५—पत्र १५०) । २ पृथ्वी-समूहव्य, संघाताकार (शाया १, १ टी—पत्र ५; श्रौप) ।  
 पिण्डिय वि [पिण्डित] १ एकत्रित, इकट्ठा किया हुआ (सूत्रानि १४०; पंचा १४, ७; महा) । २ गुणित (श्रौप) ।  
 पिण्डिया स्त्री [पिण्डिका] १ पिएडी, पिंडली, जानू के नीचे का मांसल अवयव (महा) । २ वस्तुलाकार वस्तु (श्रौप) । देखो पिंडी ।  
 पिंडी स्त्री [पिण्डी] १ लुम्बी, गुच्छा (श्रौप; भग; शाया १, १; उप पृ ३६) । २ घर का आवार-भूत काष्ठ-विशेष, पीड़ा; 'विषडि-यपिंडीवंसविपरिलंबिवालाणिम्मोश्चा' (गउड) । ३ वस्तुलाकार वस्तु, गोला; 'पिन्नापिंडी' (सूत्र २, ६, २६) । ४ खच्चूर-विशेष (नाट-शकु ३५) । देखो पिण्डिया ।  
 पिंडी स्त्री [दे] मञ्जरी (दे ६, ४७) ।  
 पिण्डीर न [दे. पिण्डीर] बाडिम, अनार (दे ६; ४८) ।

पिण्डेसणा स्त्री [पिण्डैपणा] भिक्षा ग्रहण करने की रीति (ठा ७) ।  
 पिण्डेसिय वि [पिण्डैपिक] भिक्षा की खोज करनेवाला (भग ६, ३३) ।  
 पिण्डोलग वि [पिण्डावलाग] भिक्षा से पिण्डोलगय निर्वह करनेवाला, भिक्षा का पिण्डोलय प्राप्ति, भिक्षु (आचा; उत्त ५, २२; सुख ५, २२; सूत्र १, ३; १. १०) ।  
 पिण्ध (अप) सक [पि + धा] ढकना । पिण्ध (पिग) । संकृ. पिण्धउ (पिग) ।  
 पिण्धण (अप) न [पिधान] ढकना (पिग) ।  
 पिसुली स्त्री [दे] मुँह से पवन भरकर ब्रजाया जाता एक प्रकार का तुरण-वाद्य (दे ६, ४७) ।  
 पिक पुं स्त्री [पिक] कोकिल पक्षी (पिग) । स्त्री. °की (दे ६, ५१) ।  
 पिक देखो पक = पक्व (हे १, ४७; पात्र; गा ५६५) ।  
 पिकख सक [प्र + ईक्ष] देखना । पिकखइ (भवि) । वकृ. पिकखंत (भवि) । कृ. पिकखेयव्य (सुर ११, १३३) ।  
 पिकखग वि [प्रेक्षक] निरीक्षक, द्रष्टा (तो १०; धर्मवि १५) ।  
 पिकखण न [प्रेक्षण] निरीक्षण (राज) ।  
 पिकखिय वि [प्रेक्षित] दृष्ट (पि ३६०) ।  
 पिग देखो पिक (कुमा) ।  
 पिचु पुं [पिचु] कार्पास, रई (दे ६, ७८) । °लया स्त्री [°लता] पूनी, रई की पूनी (दे ६, ५६) ।  
 पिचुमंद पुं [पिचुमन्द] निम्ब वृक्ष, नीम का पेड़ (मोह १०३) ।  
 पिच १ अ [प्रेत्य] पर-लोक, आगामी जन्म पिचा १ (आ १४; सुपा ५०६; सूत्र १, १, १, ११) । देखो पेच ।  
 पिचा देखो पिअ = पा ।  
 पिचिय वि [दे. पिचित] कूटी हुई छाल (ठा ५, ३—पत्र ३३८) ।  
 पिच्छ सक [दृश, प्र + ईक्ष] देखना । पिच्छइ, पिच्छति, पिच्छ (कप्प; प्रासू १६०; ३३) । वकृ. पिच्छंत, पिच्छमाण (सुपा ३४६; भवि) । कवकृ. पिच्छजमाण (सुपा ६२) । संकृ. पिच्छउं, पिच्छऊग (प्रासू ६१; भवि) । कृ. पिच्छणिज्ज (कप्प; सुर १३, २२३; रयण ११) ।

पिच्छ न [पिच्छ] १ पक्ष का अवयव, पंख का हिस्सा (उवा; पात्र) । २ मयूर-पिच्छ, शिखर (शाया १, ३) । ३ पक्ष, पंख (उप. ७६८ टी; गउड) । ४ पूँछ, लांगूल (गउड) ।  
 पिच्छण न [प्रेक्षण] १ दर्शन, अवलोकन (आ १४; सुपा ५५) ।  
 पिच्छण न [प्रेक्षण, °क] तमाशा, खेल, पिच्छणय नाटक; 'पारद्धं पिच्छणं तहि ताव' (सुपा ४८५), 'तो जवणिययिद्धडेहि पिच्छइ अतेउरंपि पिच्छणव' (सुपा २००) ।  
 पिच्छल वि [पिच्छल] १ स्निग्ध, स्नेह-युक्त । २ मछण (सरण) ।  
 पिच्छा स्त्री [प्रेक्षा] निरीक्षण । °भूमि स्त्री [°भूमि] रंग-मण्डप, रंगमंच (पात्र) ।  
 पिच्छि वि [पिच्छिन्] पिच्छवाला (श्रौप) ।  
 पिच्छिर वि [प्रेक्षितृ] प्रेक्षक, द्रष्टा, देखने-वाला (सुपा ७८; कुमा) ।  
 पिच्छिल वि [पिच्छिल] १ स्नेह-युक्त, स्निग्ध । २ मछण, चिकना (गउड; हास्य १४०; दे ६, ४६) ।  
 पिच्छिली स्त्री [दे] लज्जा, शरम (दे ६, ४७) ।  
 पिच्छी स्त्री [दे] चुड़ा, चोटी (दे ६, ३७) ।  
 पिच्छी स्त्री [पिच्छिका] पीछी (गा ५७२) ।  
 पिच्छी स्त्री [पृथ्वी] १ पृथ्वी, वरित्री, धरती (कुमा) । २ बड़ी इलायची । ३ पुनर्नवा । ४ कृष्ण जोरक । ५ हियुपत्री (हे १, १२८) ।  
 पिच्छोला स्त्री [दे] वीन वजाने की कंविका (सूत्र कृ० सु० पत्र १४६) ।  
 पिज सक [पा] पीना । पिजइ (हे ४, १०) । कृ. पिज्जणिज्ज (कुमा) ।  
 पिज पुंन [प्रेमन्] प्रेम, अनुराग (सूत्र १, १६, २; कप्प) ।  
 पिज्ज } देखो पा = पा ।  
 पिज्जंत }  
 पिजा स्त्री [पेया] यवानू (पिंड ६२४) ।  
 पिजाविअ वि [पायित] जिसको पान कराया गया हो वह (सुख २, १७) ।  
 पिट्ट सक [पीडय] पीड़ा करना । पिट्टंति (सूत्र २, २, ५५) ।  
 पिट्ट अक [अंश] नीचे गिरना । पिट्टइ (पड) ।



पिट्ट सक [ पिट्टय् ] पीटना, ताड़न करना ।  
पिट्टइ, पिट्टेइ (आचा: पिग: गा १७१; सिरि  
६५५) । वक्र. पिट्टंत (पिग) ।

पिट्ट न [ दे ] पेट, उदर (पंचा ३, १६; धर्मवि  
६६; चेइय २३८; कव २६; सुपा ५६३;  
सं २१) ।

पिट्टण न [ पिट्टण ] ताड़न, आघात (सूत्र २,  
२, ६२; पिड ३४; परह १, १; श्रोघ  
५६६; उप ५०६) ।

पिट्टण न [ पीडन ] पीड़ा, क्लेश (सूत्र २,  
२, ५५) ।

पिट्टणा वी [ पिट्टणा ] ताड़न (श्रोघ ३५७) ।

पिट्टावणया वी [ पिट्टणा ] ताड़न कराना  
(भग ३, ३—पत्र १८२) ।

पिट्टिय वि [ पिट्टित ] पीटा हुआ, ताड़ित  
(सुख २, १५) ।

पिट्ट न [ पिष्ट ] तरङ्गल आदि का आटा,  
चूरा (शाया १, १; ३; दे १, ७८; गा  
३८८) ।

पिट्ट न [ पृष्ट ] पीठ, शरीर के पीछे का हिस्सा  
(श्रौप; उव) ।

ओ अ [ तस् ] पीछे से, पृष्ठ भाग से  
(उवा; विपा १, १; श्रौप) । °करंडग न  
[ °करण्डक ] पृष्ठ-वंश, पीठ की बड़ी हड्डी  
(तंदु ३५) । °चर वि [ °चर ] पृष्ठ-नामी,  
अनुयायी (कुमा) । देखो पिट्टि ।

पिट्ट वि [ स्पृष्ट ] १ छुआ हुआ । २ न. स्पर्श  
(पव १५७) ।

पिट्ट वि [ पृष्ट ] १ पूछा हुआ । २ न. प्रश्न,  
पृच्छा; °जंपसि विणअं ए जंपसे पिट्टे (गा  
६४३) ।

पिट्टंत न [ दे. पृष्ठान्त ] जुदा, गाँड (दे  
६, ४६) ।

पिट्टखररा वी [ दे ] पङ्कचुरा, क्लृप मदिरा  
(दे ६, ५०) ।

पिट्टखरिआ वी [ दे ] मदिरा, घाह (पात्र) ।

पिट्टव्य वि [ प्रष्टव्य ] पूछने योग्य, नियक-  
रक्षीदीवि किकरी कि पिट्टि (?डु) व्वा (रंभा) ।

पिट्टायय पुंन [ पिष्टातक ] केसर आदि गन्ध-  
द्रव्य (गडड; स ७३४) ।

पिट्टि वी [ पृष्ट ] पीठ, शरीर के पीछे का  
भाग (हे १, १२६; शाया १, ६; रंभा;

कुमा; पड्) । °ग वि [ °ग ] पीछे चलनेवाला  
(शा १२) । °चम्पा वी [ °चम्पा ] चम्पा  
नगरी के पास की एक नगरी (कम्प) । °मंस  
न [ °मांस ] परोक्ष में; अन्य के दोष, का  
कीर्तन; °पिट्टिमंसं न खाइजा (दस न,  
४७) । °मंसिय वि [ °मांसिक ] परोक्ष में  
दोष बोलनेवाला, पीछे निन्दा करनेवाला  
(सम ३७) । °माइया वी [ °मातृका ] एक  
अनुत्तर-गामिनी वी; °चंदिमा पिट्टिमाइया  
(अनु २) । देखो पिट्ट = पृष्ठ ।

पिट्टी वी [ पिट्टी ] आटा की बनी हुई मदिरा  
(बृह २) ।

पिट्ट पुं [ पिट ] १ वंश-पत्र आदि का बना  
हुआ पात्र-विशेष । २ कच्चा, अधीनता; °जा  
ताव तेणं भणियं रे रे रे वल्ल मह पिडे  
पडिओ (सुपा १७६) ।

पिट्टग देखो पिट्टय = पिटक (श्रौप; उवा;  
सुज्ज १६) ।

पिट्टच्छा वी [ दे ] सखी (दे ६, ४६) ।

पिट्टय न [ पिटक ] १ वंशमय पात्र-विशेष,  
'भोयणंपि (? पि) डयं करेति' (शाया १,  
१—पत्र ८६) । २ दो चन्द्र और दो सूर्यो  
का समूह (सुज्ज १६) ।

पिट्टय वि [ दे ] आविन्न ( पड् ) ।

पिट्टय सक [ अर्ज ] पैदा करना, उपाजन  
करना । पिट्टवइ ( पड् ) ।

पिट्टिआ वी [ पिट्टिका ] १ वंश-मय भाजन-  
विशेष (दे ४, ७; ६, १) । २ छोटी मञ्जूपा  
पेटो, पिटारी (उप ५८७; ५६७ टी) ।

पिट्टु सक [ पीडय् ] पीड़ना । पिट्टइ (आचा:  
पि २७६) ।

पिट्टु अक [ भ्रंश ] नीचे गिरना । पिट्टइ  
(पड्) ।

पिट्टुइअ वि [ दे ] प्रशान्त (पड्) ।

पिटं अ [ पृथक् ] अलग, जुदा (पड्) ।

पिटर पुंन [ पिठर ] १ भाजन-विशेष, स्थाली  
(पात्र; आचा; कुमा) । २ गृह-विशेष । ३  
मुस्ता; मोथा । ४ मन्थान-दण्ड, मयनिया (हे  
१; २०१; पड्) ।

पिण्ड सक [ पि + नह्, पिनि + धा ]  
१ टकना । २ पहिना । ३ पहिराना । ४

वधना । पिण्डइ, पिण्डेइ (पि ५५६) । हेक.  
पिण्डदुं, पिण्डित्तए (अनि १८५; राज) ।  
पिण्ड वि [ पिण्ड ] १ पहना हुआ (पात्र;  
श्रौप; गा ३२८) । २ वक्र, यन्त्रित (राय) ।  
३ पहनाया हुआ; °निगमजयवि पिण्डो तस्स  
सिरे रयणचिचइओ (सुपा १२५) ।

पिण्डाविद् (श्री) वि [ पिनिधापित ] पह-  
नाया हुआ (नाट—शुकु ६८) ।

पिणाइ पुं [ पिनाकिन ] महादेव, शिव (पात्र;  
गडड) ।

पिणाई वी [ दे ] आना, आदेश (दे ६, ४८) ।

पिणाग पुंन [ पिनाक ] १ शिव-धनुष । २  
महादेव का शूलाग्र (धर्मवि ३१) ।

पिणागि देखो पिणाइ (धर्मवि ३१) ।

पिणाय देखो पिणाग (गडड) ।

पिणाय पुं [ दे ] बलात्कार (दे ६, ४६) ।

पिण्ड वि [ पिण्ड, पिनिहित ] देखो  
पिण्ड = पिण्ड; (परह २, ४—पत्र १३०;  
कम्प; श्रौप) ।

पिणिधा सक [ पिनि + धा ] देखो पिण्ड =  
पि + नह् । हेक. पिणिधत्तए (श्रौन; पि  
५७८) ।

पिण्णाग देखो पिन्नाग (राज) ।

पिण्णिया वी [ दे. पिण्णिका ] गन्ध-द्रव्य-  
विशेष, ध्यामक, गन्ध-तृण (उत्तनि ३) ।

पिण्णी वी [ दे ] सामा, कृश वी (दे ६, ४६) ।

पित्त पुंन [ पित्त ] शरीर-स्थित वातु-विशेष,  
तिल वातु (भग; उव) । °ज्वर पुं [ °ज्वर ]

पित्त से होता बुझार (शाया १, १) ।

°मुच्छा वी [ °मूच्छा ] पित्त की प्रबलता  
से होनेवाली वेहोशी (पडि) ।

पित्तल न [ पित्तल ] वातु-विशेष, पीतल  
(कुप्र १४४) ।

पित्तिज्ज पुं [ पित्तव्य ] चाचा, पिता का  
पित्तिय } भाई (कम्प; सम्मत १७२; सिरि  
२६३; धर्मवि १२७; स ४६५; सुपा ३२४) ।

पित्तिय वि [ पैत्तिक ] पित्त का, पित्त-  
संबन्धी (तंदु १६; शाया १, १; श्रौप) ।

पिथं अ [ पृथक् ] अलग, जुदा (हे १,  
१८८; कुमा) ।

पिथाण देखो पिहाण (नाट—विक्र १०३) ।

पिन्नाग पुं [ पिण्णयाक ] खली, तिल आदि  
पिन्नाय } का तेल निकाल लेने पर जो उसका

भाग वचता है वह (सूत्र २, ६; २६; २, १, १६; २, ६, २८) ।

पिपीलिअ पुं [पिपीलक] कीट-विशेष, चौकटा (कम्प) ।

पिपीलिआ } स्त्री [पिपीलिका] चाँदी,  
पिपीलिका } चौकटी (परह १, ६; जी १६;  
गाया १, १६) ।

पिप्पड सक [दे] बड़वड़ाना, जो मन में आवे सो बकना । पिप्पडइ (दे ६, ५० टी) ।

पिप्पडा स्त्री [दे] ऊर्णा-पिपीलिका (दे ६, ४८) ।

पिप्पडिअ वि [दे] १ जो बड़वड़ाया हो । २ न. बड़वड़ाना, निरर्थक उल्लाप, बकनाद (दे ६, ५०) ।

पिप्पय पुं [दे] १ मशक (दे ६, ७८) । २ पिशाच; भूत (पात्र) । ३ वि. उन्मत्त (दे ६, ७८) ।

पिप्पर पुं [दे] १ हंस । २ वृषभ (दे ६, ७६) ।

पिप्परी स्त्री [पिप्पली] पीपर का गाछ (परण १) ।

पिप्पल पुंन [पिप्पल] १ पीपल वृक्ष, अश्वत्थ (उप १०३१ टी; पात्र; हि १०) । २ छुरा, छुरक (विपा १, ६—पत्र ६६; श्लो ३५६) ।

पिप्पलग वि [पैपलक] पीपल के पान का बना हुआ (आचा २, २, ३, १४) ।

पिप्पलि } स्त्री [पिप्पलि, °ली] ओपधि-  
पिप्पली } विशेष, पीपर; 'महूपिप्पलिमुंठाई अणेगहा साइमं होइ' (पंचा ५, ३०; परण १७) ।

पिप्पडिअ देखो पिप्पडिअ (पड्) ।

पिप्पिया स्त्री [दे] दाँत का मैल (गंदि) ।

पिव देखो पिअ = पा । पिवामो (पि ४८३) । संक. पिवित्ता (आचा) ।

पिव्व न [दे] जल, पानी (दे ६, ४६) ।

पिम्म पुं [प्रेमन्] प्रेम, प्रीति, अनुराग (पात्र; सुर २, १७२; रंभा) ।

पियाल पुं [प्रियाल] १ वृक्ष-विशेष, खिरनी का पेड़ । २ न. फल-विशेष, खिरनी, खिनी (वस ५, २, २४) ।

पियास (अप) स्त्री [पिपासा] व्यास (अवि) ।  
पिरिडी स्त्री [दे] शकुनिका, चिड़िया (दे ६, ४७) ।

परिपिरिया देखो परिपिरिया (राज) ।

पिरिली स्त्री [पिरिली] १ गुच्छ-विशेष, वनस्पति-विशेष (परण १) । २ वाद्य-विशेष (राज) ।

पिल देखो पील । कर्म. पिलजइ (नाट) ।

पिलंखु } पुं [प्लक्ष] १ वृक्ष-विशेष,  
पिलंखु } पिलखन, पाकड़ का पेड़ (सम १५२; श्लो २६; पि ७४) । २ एक तरह का पीपल वृक्ष; 'पिलंखू पिप्पलभेदो' (निहू ३) ।

पिलण न [दे] पिच्छल देश, चिकनी जगह (दे ६, ४६) ।

पिला देखो पीला (पि २२६) ।

पिलाग न [पिटक] फोड़ा, कुनसी (सूत्र १, ३, ४, १०) ।

पिलिखु देखो पिलंखु (विचार १४८) ।

पिलिहा स्त्री [प्लोहा] अंग-विशेष, पिलही, तिल्ली (तंदु ३६) ।

पिलुअ न [दे] कुत, छोक (पड्) ।

पिलुंक् } देखो पिलंखु (पि ७४; परण  
पिलुंक् } १—पत्र ३१) ।

पिलुंखु देखो पिलंखु (आचा २, १, ८, ३) ।

पिलुट्ट वि [प्लुट्ट] दग्ध (हे २, १०६) ।

पिलोस पुं [प्लोप] दाह, दहन (हे २, १०६) ।

पिल देखो पेल = क्षिप् । पिल्लइ (अवि) ।

पिल सक [प्र + ईर्य्] १ प्रेरणा करना । २ प्रवृत्त करना । पिल्लेइ (वव १) ।

पिल्लग न [दे] पत्नी का वचा ।

पिल्लण न [प्रेरण] प्रेरणा (जं ३) ।

पिल्लणा स्त्री [प्रेरणा] प्रेरणा (कम्प) ।

पिल्लि स्त्री [दे] यान-विशेष (दसा ६) ।

पिल्लिअ वि [क्षिप्त] फेंका हुआ (पात्र; अवि; कुमा) ।

पिल्लिअ वि [प्रेरित] जिसको प्रेरणा की गई हो वह (सुपा ३६१) ।

पिल्लिरी स्त्री [दे] १ शृण-विशेष, गण्डुव शृण । २ चीरी, कीट-विशेष । ३ धर्म, पत्नीना (दे ६, ७६) ।

पिल्लुग (दे) देखो पिलुअ (वव २) ।

पिल्लह न [दे] छोटे पत्नी के तुल्य (दे ६, ४६) ।

पिव देखो इव (हे २, १८२; कुमा; महा) ।

पिव सक [पा] पीना । पिवइ (पिग) । भूका-अपिवित्वा (आचा) । कर्म. पिवोअंति (पि ५३६) । संक. पिविअ, पिविइत्ता, पिवित्ता (नाट; ठा ३, २; महा) । हेइ. पिविइं, पिवित्तए (आक ४२; श्लोप) ।

पिवण देखो पिअण = (दे) (अवि) ।

पिवासय वि [पिपासक] पीने की इच्छा-वाला (भग—अत्य°) ।

पिवासा स्त्री [पिपासा] व्यास, पीने की इच्छा (भग; पात्र) ।

पिवासिय वि [पिपासित] वृषित (उवा; वे....) ।

पिशीलिआ देखो पिपीलिआ (उव; स ४२०, भा ४६) ।

पिव्व देखो पिव्व (पड्) ।

पिस सक [पिप्] पीसना । पिसइ (पड्) ।

पिसंग पुं [पिशाङ्ग] १ पिगल वण, मठियारा रंग । २ वि. पिगल-वणवाला (पात्र; कुप्र १०५; ३०६) ।

पिसंडि [दे] देखो पसंडि (सुपा ६०७; कुप्र ६२; १४५) ।

पिसइ पुं [पिशाच] पिशाच, व्यन्तर-योनिक देवों की एक जाति (हे १, १६३; कुमा; पात्र; उप २६४ टी; ७६८ टी) ।

पिसाजि वि [पिशाचिन्] भूताविष्ट (हे १, १७७; कुमा; पड्; चंड) ।

पिसाय देखो पिसइ (हे १, १६३, परह १, ४; महा; इक) ।

पिसिअ न [पिशित] मांस (पात्र; महा) ।

पिसुअ पुंजी [पिशुक] क्षुद्र कीट-विशेष । स्त्री. °या (राज) ।

पिसुण सक [कथय्] कहना । पिसुणइ, पिसुणेइ, पिसुणंति, पिसुणंति, पिसुणवु (हे ४, २; गा ६८५; सुर ६, १६३; गा ५५६; कुमा) ।

पिसुण पुं [पिशुन] खल, दुर्जन, पर-निन्दक, चुगलखोर (सुर ३, १६; प्रासू १८; गा ३७७; पात्र) ।

पिसुणिअ वि [कथित] १ कहा हुआ । २ सूचित (सुपा २३; पात्र; कुप्र २७८) ।  
 पिसुमय (पै) पुं [विस्मय] आश्चर्य (प्राक १२४) ।  
 पिह सक [स्पृह] इच्छा करना, चाहना ।  
 पिहाइ (भग ३, २—पत्र १७२) । संकृ. पिहाइत्ता (भग ३, २) ।  
 पिह वि [पृथक्] भिन्न, जुदा; 'पिहपिहाए' (विसे ८४८) ।  
 पिहं अ [पृथक्] अलग (हे १, १३७; पइ) ।  
 पिहंड पुं [दे] १ वाद्य-विशेष । २ वि. विवरण (दे ६, ७६) ।  
 पिहड देखो पिहड (हे १, २०१; कुमा, उवा) ।  
 पिहण न [पिधान] १ ढकन, पिधान (सुर १६, १६५) । २ ढकना, आच्छादन (पंचा १, ३२; संवोध ४६; सुपा १२१) ।  
 पिहणया स्त्री [पिधान] आच्छादन, ढकना (स ५१) ।  
 पिहय देखो पिह = पृथक् (कुमा) ।  
 पिहा सक [पि + धा] १ ढकना । २ बंद करना । पिहाइ (भग ३, २) । संकृ. पिहाइत्ता, पिहिऊण (भग ३, २; महा) ।  
 पिहाण देखो पिहण (ठा ४, ४; रत्न २५; कप्प) ।  
 पिहाणिआ स्त्री [पिधानिका] ढकनी (पात्र) ।  
 पिहाणी स्त्री [पिधानी] ऊपर देखो (दे) ।  
 पिहिअ वि [पिहित] १ ढका हुआ । २ बंद किया हुआ (पात्र; कस; ठा २, ४—पत्र ६६; सुपा ६३०) । १ 'सव वि [सव] १ जिसने आन्त्र को रोका हो (वस ४) । २ पुं. एक जैन मुनि का नाम (पउम २०, १८) ।  
 पिहिण देखो पिहण, 'आएवणे पेसवणे पिहिणे ववएस मच्छरे चव' (आ ३०; पडि) ।  
 पिहिमिं (अप) स्त्री [पृथिवी] भूमि, वरती ।  
 'पाल पुं [पाल] राजा (भवि) ।  
 पिहीकय वि [पृथक्कृत] अलग किया हुआ (पिड ३६१) ।  
 पिहु वि [पृथु] १ विस्तीर्ण (कुमा) । २ पुं. एक राजा का नाम (पउम ६८, ३४) ।  
 'रोम पुं [रोम] मीन, मल्ल (दे ६, ५० टी) ।

पिहु देखो पिह = पृथक् (सुर १३, ३६; सण) ।  
 पिहुं देखो पिहुय; 'पिहुवज्ज त्ति नो वए' (वस ७, ३४) ।  
 पिहुंड न [पिहुण्ड] नगर-विशेष (उत्त ३१, २) ।  
 पिहुण [दे] देखो पेहुण (आचा २, १, ७, ६) । 'हत्थ पुं [हत्त] मयूर-पिच्छ का किया हुआ पंखा (आचा २, १, ७, ६) ।  
 पिहुत्त देखो पुहुत्त (तंडु ४) ।  
 पिहुय पुंन [पृथुक] लाय-विशेष, चिठड़ा (आचा २, १, १, ३; ४) ।  
 पिहुल वि [पृथुल] विस्तीर्ण (परह १, ४; औप; दे ६, १४३; कुमा) ।  
 पिहुल न [दे] मुंह के बायु से बजाया जाता वृण-वाद्य (दे ६, ४७) ।  
 पिहे देखो पिहा । पिहेइ, पिहे (उत्त २६, ११; सूत्र १, २, २, १३) । संकृ. पिहेऊण (पि ५८६) ।  
 पिहो अ [पृथक्] अलग, भिन्न (विसे १०) ।  
 पिहोअर वि [दे] तनु, कृय, दुर्बल (दे ६, ५०) ।  
 पी सक [पी] पान करना । वक्र. 'तम्पुहस-संकंतिपीऊसपूरं पीयसाणी' (रयण ५१) ।  
 पीअ पुं [पीत] १ पीत वर्ण; पीला रंग । २ वि. पीत वर्णवाला, पीला (हे २, १७३; कुमा; प्राप्र) । ३ जिसका पान किया गया हो वह (से १, ४०; दे ६, १४४) । ४ जिसने पान किया हो वह (प्राप्र) ।  
 पीअ वि [प्रीत] प्रीति-युक्त, संतुष्ट (औप) ।  
 पीअर (अप) नीचे देखो (पिण) ।  
 पीअल देखो पीअ = पीत (हे २, १७३; प्राप्र) ।  
 पीअसी स्त्री [प्रेयसी] प्रेम-पात्र स्त्री (कुमा) ।  
 पीइ पुं [दे] अश्व, घोड़ा (दे ६, ५१) ।  
 पीइ स्त्री [प्रीति] १ प्रेम, अनुराग (कप्प; पीई) महा) । २ रावण की एक पत्नी का नाम (पउम ७४, ११) । 'कर पुंन [कर] एक विमानावास, आठवां प्रेयस्क-विमान (देवेंद्र १३७; पव १६४) । 'गमं न [गम] महाशुक्र देवेंद्र का एक यान-विमान (इक; औप) । 'दाण न [दान] हर्ष होने के

कारण दिया जाता दान, पारितोषिक (औप; सुर ४, ६१) । 'वभिमय न [वभिमिक] जैन मुनियों का एक कुल (कप्प) । 'मण वि [मनस्] १ प्रीति-युक्त चित्तवाला (भग) । २ पुं. महाशुक्र देवलोक का एक यान-विमान (ठा ८—पत्र ४३७) । 'वद्धण पुं [वर्धन] कार्तिक मास का लोकोत्तर नाम (मुज्ज १०, १६; कप्प) ।  
 पीईय पुं [दे] वृक्ष-विशेष, गुल्म का एक भेद; 'पीईयाणकणइरकुज्जय तह सिन्दुवारे य' (परण १) ।  
 पीऊस न [पीयूप] अमृत, सुवा (पात्र) ।  
 पीठ सक [पीडय] १ हेरान करना । २ दवाना । पीडइ, पीडंतु (पिग; हे ४, ३८५) । कर्म. पीडिज्जइ (पिग) । कवक. पीडिज्जंत, पीडिज्जमाण (से ११, १०२; ना ५४१; सण) ।  
 पीडं देखो पीडा । 'अर वि [कर] पीडा-कारक (पउम १०३, १४३) ।  
 पीडरइ स्त्री [दे] चोर की स्त्री (दे ६, ५१) ।  
 पीडा स्त्री [पीडा] पीड़न, हेरानी, वेदना (पात्र) । 'कर वि [कर] पीडा-कारक; 'अलिअं न भासियववं अत्यि हुसचंपि जं न वत्तवं । सचंपि तं न सच्चं जं परपीडाकरं वयणं' (आ ११; प्राप् १५०) ।  
 पीडिअ वि [पीडित] १ पीडा से जो दुःखी हो वह, अभिमूत, पराजित, व्याकुल, दुःखित । २ दवाया गया (हे १, २०३; महा; पात्र) ।  
 पीड पुंन [पीठ] १ आसन, पीड़ा; 'पीडं विदुरं आसणं' (पात्र; रयण ६३) । २ आसन-विशेष, व्रती का आसन (चंड; हे १, १०६; उवा; औप) । ३ तल; 'चत्तूण नेडपीडं' (कुमा) । ४ पुं. एक जैन महर्षि (सट्टि ८१ टी) । 'बंध पुं [बन्ध] ग्रंथ की अवतरणिका, भूमिका; 'नय पीडवन्ध-रहियं कहिज्जमाणं पि देइ भावत्वं' (पउम ३; १६) । 'मइ, 'मइअ पुं स्त्री [मईक] काम-पुरुषार्थ में सहायक नायक का समीपवर्ती पुरुष, राजा आदि का वयस्य-विशेष (याया १, १—पत्र १६; कप्प) । स्त्री. 'महिआ (मा १६) । 'सपि वि [सपिन्] पुं-विशेष (आचा) ।

पीठ न [दि] १ ईक्ष परने का यन्त्र (दे ६, ५१) । २ समूह, दूय; 'उद्वियं वणगइंदपीठं, पण्डा विसो विसो (१सि) कम्मडिया' (स २३३) । ३ पीठ, शरीर के पीछे का भाग; 'हृत्पिपीठसमाब्धो' (त्रि ६६) ।

पीठग न [पीठक] देखो पीठ = पीठ पीठय } (कस; गच्छ १, १०; दस ७, २८) ।  
पीठरखंड न [पीठरखण्ड] नर्मदा-तीर पर स्थित एक प्राचीन जैन तीर्थ (पञ्च ७७, ६४) ।

पीठाणिय न [पीठानीक] अश्व-सेना (ठा ५, १—पत्र ३०२) ।

पीठिआ व्री [पीठिका] आसन-विशेष, मञ्च; 'आसंवी पीठिआ' (पात्र) । देखो पेठियां ।

पीठी व्री [दि. पीठिका] काष्ठ-विशेष, घर का एक आधार-काष्ठ; गुजराती में 'पीठिउं'; 'ततो नियत्तिरूपं सत्तट्ट पयाइं जाव पहरेइ । ता उवरिपीठिलखणे खण्णो खडकियं तव्य' (धर्मवि ५६) ।

पीण सक [पीणय्] पुष्ट करना । पीणति (राय १०१) ।

पीण सक [पीणय्] लुप्त करना । कृ. देखो पीणणिज्ज ।

पीण वि [दे] चतुरस्र, चतुष्कोण (दे ६, ५१) ।

पीण वि [पीन] पुष्ट, मांसल, उपचित (हे २, १५४; पात्र; कुमा) ।

पीणण न [पीणन] लुप्त करना (धर्मवि १४८) ।

पीणणिज्ज वि [पीणनीय] श्रौति-जनक (श्रौप; कम्म; परण १७) ।

पीणाइय वि [दे. पैनायिक] गर्वं से निवृत्त, गर्वं से किया हुआ; 'पीणाइयविरसरडियसइयं फोडयंते व अंवरतलं' (साया १, १—पत्र ६३) ।

पीणाया व्री [दे. पीनाया] गर्वं, अहंकार (साया १, १) ।

पीणिअ वि [पीणित] १ तोपित (सण) । २ उपचित, परिवृद्ध (दस ७, २३) । ३ पुं-प्रयोत्पि-असिद्ध योग-विशेष, जो पहले सूर्य या चन्द्र का किसी ग्रह या नक्षत्र के साथ होकर बाद में दूसरे सूर्य आदिके साथ उपचय को प्राप्त हुआ हो वह योग (सुज्ज-१२) ।

पीणिम पुं व्री [पीनता] पुष्टता, मांसलता (हे २, १५४) ।

पीयमाण देखो पा = पा ।

पीयमाण देखो पी = पी ।

पीरिपीरिया व्री [दे] वाद्य-विशेष (राय ४५) ।

पील सक [पीडय्] १ पीलना, परना; दवाना । २ पीड़ा करना, हैरान करना । पीलइ, पीलेइ (धात्वा १४५; पि २४०) । कवकृ. पीलिज्जंत (आ ६) ।

पीलण न [पीलन] दवाव, पीलन, परना; 'मारणंसिणोण माणो पीलणभोअ व्व हिअआहि' (काप्र १६६), 'जंतपीलणकम्म' (उवा) ।

पीला देखो पीडा (उप ४३६; सुपा ३५८) ।

पीलावय वि [पीडक] १ परनेवाला । २ पुं. तेलो, यंत्र से तेल निकालनेवाला (वज्जा ११०) ।

पीलिअ वि [पीडित] पीला या पेरा हुआ (श्रौप; ठा ५, ३; उव) ।

पीलिम वि [पीडावत्] दाववाला, दावने से बना हुआ (वज्ज आदि की आकृति) (दसति २, १७) ।

पीलु पुं [पीलु] १ दुःख-विशेष, पीलु का वेड़ (परण १; वज्जा ४६) । २ हाथी (पात्र; स ७३५) । ३ न. दूब; 'एगट्टं बहुनामं दुद पओ पीलु खीरं च' (पिड १३१) ।

पीलुअ पुं [दे. पीलुक] शावक, वचा; 'तडसंठिअणीठिकंतपीलुआरक्खणेकदिएणमणा' (गा १०२) ।

पीलुट्ट वि [दे. प्लुट्ट] देखो पिलुट्ट (दे ६, ५१) ।

पीवर वि [पीवर] उपचित, पुष्ट (साया १, १; पात्र; सुपा २६१) । गम्भा व्री [गर्भा] जो निकट भविष्य में ही प्रसव करनेवाली हो वह व्री (श्रौभभा ८३) ।

पीवल देखो पीअ = पीत (हे १, २१३; २, १७३; कुमा) ।

पीस सक [पिप्] पीसना । पीसइ (पि ७६) । वक्र. पीसंत (पिड ५७४; साया १, ७) । संकृ. पीसिऊण (कुप्र ४५) ।

पीसण न [पेपण] १ पीसना, दलना (परइ १, १; उप पृ १४०; रयण १८) । २ वि. पीसनेवाला (सूअ १, २, १; १२) ।

पीसय वि [पेपक] पीसनेवाला (सुपा ६३) ।

पीह सक [स्पृह्, प्र + ईह्] अभिलाषा करना, चाहना । पीहंति, पीहंजा (श्रौप; ठा ३, ३—पत्र १४४) ।

पीहग पुं [पीठक] नवजात शिशु को पीलाइ जाती एक वस्तु (उप ३११) ।

पु व्री [पुर] शरीर (विसे २०६५) ।

पुअ न [प्लुत] १ तियंग गति । २ भांपना; कम्म-गति; 'जुष्कामो पू (? पु) वयाएहि' (विसे १४३६ टी) । जुद्ध न [युद्ध] अरुम युद्ध का एक प्रकार (विसे १४७७) ।

पुअंड पुं [दे] तल्ल, युवा (दे ६, ५३; पात्र) ।

पुआइ वि. [दे] १ तल्ल, युवा (दे ६, ८०) । २ जन्मत (दे ६, ८०; पड्) । ३ पुं. पिशाच (दे ६, ८०, पात्र; पड्) ।

पुआइणी व्री [दे] १ पिशाच-गृहीत व्री, भूताविष्ट महिला । २ उन्मत्त व्री । ३ कुलटा, व्यभिचारिणी (दे ६, ५४) ।

पुआव सक [प्यावय्] ले जाना । संकृ. पुयावइत्ता (ठा ३, २) ।

पुं पुं [पुंस्] पुल्प, मर्द (पि ४१२; धम्म १२ टी) । देखो पुंगव, पुंनाग, पुंवड आदि ।

पुंख पुं [पुंख] १ वाण का अग्र भाग; 'तस्स य सरस्स पुंखं विद्धइ अन्नेण तिकखवाणेण' (धर्मवि ६७; उप पृ ३६५) । २ न. देव-विमान-विशेष (सम २२) ।

पुंखणग न [दे. प्रोङ्खणक] चुमाना, विवाह की एक रीति, गुजराती में 'पोंखणु' (सुपा ६५) ।

पुंखिअ वि [पुंखित] पुंख-युक्त किया हुआ, 'वणुहे तिक्को सरो पुंखियो' (कप्पू) ।

पुंगल पुं [दे] श्रेष्ठ, उत्तम (भवि) ।

पुंगव वि [पुंखव] श्रेष्ठ, उत्तम (सुपा ५; ८०; शु ४१; गल्ल) ।

पुंछ सक [प्र + उच्छ] पीछना, सफा करना । पुंछइ (पात्र ६७; हे ४, १०५) । कृ. पुंछणीअ (पि १८२) ।

पुंङ्ग पुंन [पुंङ्ग] पूँछ, लांगूल (प्राङ् १२; हे १, २६)।

पुंङ्गण न [प्रोङ्गण] १ मार्जन (कम्प; उवा; सुपा २६०)। २ रजोहरण, जैन मुनि का एक उपकरण (बृह १)।

पुंङ्गणी स्त्री [प्रोङ्गणी] पोंछने का एक छोटा वृणमय उपकरण (राय)।

पुंङ्गिअ वि [प्रोङ्गिअ] पोंछा हुआ, मृष्ट (पात्र; कुमा; नवि)।

पुंज सक [पुंज्, पुंज्य्] १ इकट्ठा करना। २ फैलाना, विस्तार करना। पुंजइ (हे ४, १०२, नवि)। कर्म. पुंजिजइ (कम्प)। क्वक. पुंजइजमाण (से १२, ८६)।

पुंज पुंन [पुंज] डेर, राशि (कम्प; कस; कुमा); 'खारिकपुंजयाइं ठावइ' (सिरि ११६६)।

पुंजइअ वि [पुंजित] १ एकत्रित (से ६, ६३; पउम ८, २६१)। २ व्याप्त, भरपूर (पउम ८, २६१)।

पुंजइजमाण देखो पुंज = पुंज्।

पुंजक } वि [पुंजक] १ राशि रूप से  
पुंजय } स्थित, 'न उणं पुंजकपुंजका' (पिउ ८२)। २ देखो पुंज = पुंज्।

पुंजय पुंन [दे] कतवार, गुजराती में 'पुंजो'; काशोवि तहि पुंजयपुंङ्गण-

छउमेण निययपावरय।

अवणितोयो इव

सारविति जिणमंदिंरंगणयं

(सुपां २६०)।

पुंजाय वि [दे] पिएडाकार किया हुआ, 'पुंजायं पिडलइयं' (पात्र)।

पुंजाविय वि [पुंजित] एकत्रित कराया हुआ (काल)।

पुंजिअ वि [पुंजित] एकत्रित (से ५, ७२; कुमा; कम्प)।

पुंङ्ग पुं [पुंङ्ग] १ देश-विशेष, विन्ध्याचल के समीप का भू-भाग (से २२५; मग १५)। २ इन्द्र-विशेष (पउम ४२, ११; गा ७४०)। ३ वि. पुंङ्ग-देशीय (पउम ६६, ५५)। ४ बवल, श्वेत, सफेद (खाया १, १७ टी—पत्र

२३१)। ५ पुंन. तिलक (से ६; पिउना ४३; कुप्र २६४)। ६ देव-विमान-विशेष (सम २२)। ७ वृद्धण न [वर्धन] नगर-विशेष (से २२५)। देखो पोंड।

पुंङ्गइअ वि [दे] पिएडाकार, पिएडाकार किया हुआ (दे ६, ५४)।

पुंङ्गिरिक देखो पुंङ्गरीअ (सूय २, १, १)।

पुंङ्गिरिकि वि [पुंङ्गरीकि] पुंङ्गरीकवाला (सूय २, १, १)।

पुंङ्गरिगिणी स्त्री [पुंङ्गरीकिणी] पुंङ्गरीकवाली त्रिजय की एक नगरी (खाया १, १६; इका; कुप्र २६५)।

पुंङ्गरिय देखो पुंङ्गरीअ = पुंङ्गरीक, पौण्डरीक (उवा; काल; पि ३५४)।

पुंङ्गरीअ पुं [पुंङ्गरीक] १ ग्यारह रूद्र पुरुषों में सातवां रूद्र (विचार ४७३)। २ एक राजा, महापद्म राजा का एक पुत्र (कुप्र २६५; खाया १, १६)। ३ व्याप्त, शादूल (पात्र)। ४ पुंन. तप-विशेष (पत्र २७१)। ५ श्वेत पद्म, सफेद कमल (सूयनि १४५)। ६ कमल; पद्म; 'अंबुहं सयवत्तं सरोहं पुंङ्गरीयमरविदं' (पात्र; सम १; कम्प)। ६ देव-विमान विशेष (सम ३५)। ७ वि. श्वेत, सफेद (संग १३२)। ८ गुम्भ न [गुम्भ] देव-विमान-विशेष (सम ३५)। ९ दह, दह पुं [द्रह] शिखरी पर्वत पर का एक महा-

ह्वद (ठा २, ३; सम १०४)।

पुंङ्गरीअ वि [पौण्डरीक] १ श्वेत पद्म का, श्वेत-पद्म-संबन्धी (सूयनि १४५)। २ प्रवान, मुख्य। ३ कान्त, श्रेष्ठ, उत्तम (सूयनि १४७; १४८)। ४ न. सूयकृतांग सूय के द्वितीय

युत्सुक्य का पहला अध्ययन (सूयनि १५७)। देखो पोंडरीग।

पुंङ्गरीया स्त्री [पुंङ्गरीका] देखो पोंडरी (राज)।

पुंङ्गे अ [दे] जाओ (दे ६, ५२)।

पुंङ्ग देखो पुंङ्ग (उप ७६५)।

पुंङ्ग पुं [दे] गुवं, गहवा, गढा (दे ६, ५२)।

पुंङ्गाग पुं [पुंङ्गाग] १ वृक्ष-विशेष, पुष्प-प्रवान एक वृक्ष-जाति, पुन्नाग, पुलाक; सुल-

तान चम्पक, पाटल का गाछ (उप पृ १८; ७६८ टी; सम्मत् १७५)। २ श्रेष्ठ, मुख्य,

उत्तम मर्द (धम्म १२ टी; सम्मत् १७५)। देखो पुन्नाम।

पुंङ्ग पुं [दे] संगम (दे ६, ५२)।

पुंङ्ग पुंन [दे] नीरस, दाड़िम का छिलका (?)। 'मगइ अत्तयं जा निपीलियं पुंन-मणए ताव' (धर्मवि ६७); [अत्तय, मणिण नीरसं पणामिइ] (महा ५६)।

पुंङ्ग पुंन [पुंङ्गस] व्याकरणोक्त संस्कार-युक्त शब्द-विशेष, पुंलिन शब्द (पएण ११—पत्र ३६३)।

पुंङ्ग पुं [पुंङ्ग] १ पुरुष की स्त्री-स्वरी का अभिन्ताप। २ उसका कारण-भूत कर्म (पि ४१२)।

पुंङ्ग सक [पुंङ्ग, मृङ्ग] मार्जन करना, पोंछना। पुंङ्गइ (हे ४, १०५)।

पुंङ्ग देखो पुं। 'कोइल, कोइलया पुं [कोकिल] नरदाना कोयल, पिक (ठा १०—पत्र ५६६; पि ४१२)।

पुंङ्गण न [पुंङ्गण] मार्जन (कुमा)।

पुंङ्ग पुं [पुंङ्ग] 'पुङ्ग' ऐसा नाम (कुमा)।

पुंङ्गली स्त्री [पुंङ्गली] कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री (वज्जा ६८; धर्मवि १३७)।

पुंङ्गिअ वि [पुंङ्गित] पोंछा हुआ (दे १, ६६)।

पुंङ्ग सक [पुंङ्ग + क] पुंकारना, डांकना, पुंकार [ग्राहान करना। पुंङ्गरेइ (वम्म ११ टी)। वृ. पुंङ्गंत, पुंङ्गरंत (पएह १, ३—पत्र ४५; आ १२)। देखो पोङ्ग।

पुंङ्गरिय वि [पुंङ्गित] पुंकारा हुआ (सुपा ३८१)।

पुंङ्ग देखो पुंङ्गवृक्ष (पएह २, ५—पत्र १५१)।

पुंङ्गा स्त्री. देखो पुंङ्गार = पुंङ्गार (पात्र; सुपा ५१७)।

पुंङ्गार देखो पुंङ्गार। पुंङ्गारंत (राय)। वृ. पुंङ्गारंत, पुंङ्गारित, पुंङ्गारमाण (सुपा ४१५; ३८१; २४८; खाया १, १८)।

पुंङ्गार पुं [पुंङ्गार] पुंकार, डांक, ग्राहान (सुपा ५१७; महा; सण)।

पुंङ्गार देखो पोङ्गार = पुंङ्गार (कम्प; महा; पि १२५)। कण्ठिया स्त्री [कण्ठिया]

पद्म का बीज-कोरा, कमल का मध्य भाग (श्रीप)। <sup>१</sup>क्ख पुं [ <sup>१</sup>क्ख ] १ विष्णु, श्रीकृष्ण। २ क्रमोर के एक राजा का नाम (मुद्रा २४२)। <sup>१</sup>गय न [ <sup>१</sup>गत ] वाद्य-विशेष का ज्ञान, कला-विशेष (श्रीप)। <sup>१</sup>द्व न [ <sup>१</sup>ध्व ] पुष्करवर नामक द्वीप का आया हिस्ता (सुज १६)। <sup>१</sup>वर पुं [ <sup>१</sup>वर ] द्वीप-विशेष (ठा २, ३; पडि)। <sup>१</sup>संवट्टग देखो पुक्खल-संवट्टय (राज)। <sup>१</sup>वत्त देखो पुक्खलावट्टय (राज)।

पुक्खरिणी देखो पोक्खरिणी (सूत्र २, १, २, ३; श्रीप; पात्र)।

पुक्खरोअ ) पुं [ <sup>१</sup>पुक्खरोद ] समुद्र-विशेष  
पुक्खरोद ) (इक) ठा ३, १; ७; सुज १६)।

पुक्खल पुं [ <sup>१</sup>पुष्कर ] एक विजय, प्रान्त-विशेष, जिसकी मुख्य नगरी का नाम श्रीपधि है (इक)। २ पद्म, कमल; 'निसनिसमुणाल-पुक्खलत्ताए' (सूत्र २, ३, १८)। ३ पद्म-कसर (आचा २, १, ८—सूत्र ४७)। <sup>१</sup>विभंग न [ <sup>१</sup>विभङ्ग ] पद्म-कन्द (आचा २, १, ८—सूत्र ४७)। <sup>१</sup>संवट्ट, <sup>१</sup>संवट्टय पुं [ <sup>१</sup>संवर्त, <sup>१</sup>क ] मेघ-विशेष, जिसके बरसने से दस हजार वर्ष तक पृथिवी वासित रहती है (उर २, ६; ठा ४, ४—पत्र २७०)। देखो पुक्खर।

पुक्खल पुं [ <sup>१</sup>पुष्कल ] १ एक विजय, प्रदेश-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०)। २ अनायें देश-विशेष। ३ पुंल्लो. उस देश में उत्पन्न, उसमें रहनेवाला; 'सिधलीहि पुलिदिहि पुक्खलीहि (?)' (मग ६, ३३—पत्र ४५७), [ 'सिहलीहि पुलिदीहि पक्कणीहि (?)' (मग ६, ३३ टी—पत्र ४६०) ]। ४ वि. अत्यन्त, प्रभूत (कुप्र ४१०)। ५ संपूरण, परिपूरण (सूत्र २, १, १)।

पुक्खलच्छिभग ) पुंन [ <sup>१</sup>दे ] जलरह-विशेष,  
पुक्खलच्छिभय ) जल में होनेवाली वनस्पति-विशेष (सूत्र २, ३, १८; १६)। देखो पोक्खलच्छिलय।

पुक्खलावट्टी लो [ <sup>१</sup>पुष्करावती, पुष्कलावती ] महाविदेह वर्ष का एक विजय—प्रान्त-विशेष (ठा २, ३; इक; महा)। <sup>१</sup>कूड पुंन [ <sup>१</sup>कूट ] एक-शैल पर्वत का एक शिखर (इक)।

पुक्खलावट्टय पुं [ <sup>१</sup>पुष्करावर्तक, पुष्कलावर्तक ] मेघ-विशेष; 'पुक्खल (?)ला वट्टएणं महामेहे एणेणं वातेणं दस वाससहस्रवाइ भावेति' (ठा ४, ४)।

पुक्खलावत्त पुं [ <sup>१</sup>पुष्करावर्त, पुष्कलावर्त ] महाविदेह वर्ष का एक विजय—प्रान्त (जं ४)। <sup>१</sup>कूड पुं [ <sup>१</sup>कूट ] एकशैल पर्वत का एक शिखर (इक)।

पुगारिया लो [ <sup>१</sup>दे ] वज्रादि लादक जंतु-विशेष (सूत्र ० चू ० गा ० २८२)।

पुग्ग पुंन [ <sup>१</sup>दे ] वाद्य-विशेष, 'सो पुरम्मि पुग्गाइं वाएइं' (कुप्र ४०३)।

पुग्गल पुं [ <sup>१</sup>पुद्गल ] १ वृक्ष-विशेष। २ न. कल-विशेष। ३ मांस (दस ५, १, ७३)।

पुग्गल देखो पोग्गल (सिक्खा १५, नव ४२; पि १२५)। <sup>१</sup>परट्ट, <sup>१</sup>परावत्त पुं [ <sup>१</sup>परावर्त ] देखो पोग्गल-परिअट्ट (कम्म ५, ८६; वै. ५०; सिक्खा ८)।

पुच्चड देखो पोच्चड; 'सियमलपुच्च (?) च डम्मो' (संदु ४०)।

पुच्छ सक [ <sup>१</sup>प्रच्छ ] पूछना, प्रश्न करना। पुच्छइ (हे ४, ६७)। मूका. पुच्छिंसु, पुच्छीम, पुच्छे (पि ५१६; कुमा; भग)। कर्म. पुच्छिज्जइ (भवि)। वक्क. पुच्छंत (गा ३४७; ३५७; कुमा)। कवक. पुच्छिज्जंत (गा ३४७; सुर ३, १५१)। संक. पुच्छित्ता (भग)। हेक. पुच्छिउं, पुच्छित्ताए (पि ५७३; भग)। क. पुच्छणिज्ज, पुच्छणीअ, पुच्छियच्च, पुच्छेयच्च (आ १४, पि ५७१; उप ८६४; कप्प)।

पुच्छ देखो पुंछ = प्र + उच्छ। पुच्छइ (पड्)। पुच्छ देखो पुंछ = पुच्छ (कप्प)।

पुच्छअ ) वि [ <sup>१</sup>प्रच्छक ] पूछनेवाला,  
पुच्छग ) प्रश्न-कर्ता (श्रीपभा २८; सुर १०, ६५)। लो. 'च्छिआ (अभि १२५)। पुच्छण न [ <sup>१</sup>प्रच्छन, प्रश्न ] पूछा (सूत्रानि १६३; धम्मवि ८; आचक ६३ टी)।

पुच्छणया ) लो [ <sup>१</sup>प्रच्छना ] ऊपर देखो  
पुच्छणा ) (उप ४६६, श्रीप)।

पुच्छणी लो [ <sup>१</sup>प्रच्छनी ] प्रश्न की भाषा (ठा ४, १—पत्र १८२)।

पुच्छल (अप) देखो पुट्ट = पुट्ट (पिग)।

पुच्छा लो [ <sup>१</sup>पूछा ] प्रश्न (उवा; सुर ३, ३५)।

पुच्छिअ वि [ <sup>१</sup>पूट्ट ] पूछा हुआ (श्रीप; कुमा; भग; कप्प; सुर २, १६८)।

पुच्छिर वि [ <sup>१</sup>पूट्ट ] प्रश्न-कर्ता (गा ५६८)। पुच्छल देखो पुच्छल (पिग)।

पुज सक [ <sup>१</sup>पूजय् ] पूजना, आदर करना। पुज्जइ (कुप्र ४२३; भवि)। कर्म. पुज्जिज्जइ (भवि)। वक्क. पुज्जंत (कुप्र १२१)। कवक. पुज्जिज्जंत (भवि)। संक. पुज्जिउं, पुज्जिऊण (कुप्र १०२, भवि)। क. पुज्जिअच्च (तो ७)। प्रयो. पुज्जावइ (भवि)।

पुज देखो पूज = पूजय्। पुज्जंत देखो पुज्ज = पूजय्। पुज्जंत देखो पूर = पूरय्।

पुज्जण न [ <sup>१</sup>पूजन ] पूजा, अर्चा (कुप्र १२१)। पुज्जमाण देखो पूर = पूरय्।

पुज्जा लो [ <sup>१</sup>पूजा ] पूजा, अर्चा (उप २ २४२)। पुज्जिय वि [ <sup>१</sup>पूजित ] सेवित, अर्चित (भवि)। पुट्ट सक [ <sup>१</sup>प्र + उच्छ ] पाँचना। पुट्टइ (प्राक ६७)।

पुट्ट न [ <sup>१</sup>दे ] पेट, उदर (आ २८; मोह ४१; पव १३५; सम्मत २२६; सिरि २४२; सण)।

पुट्टल ) पुंन [ <sup>१</sup>दे ] गट्टर, गाँठ; पुगराती  
पुट्टलय ) में 'पोट्लु'; 'संवलपुट्टलयं च गहियं' (सम्मत् ६१)।

पुट्टलिया लो [ <sup>१</sup>दे ] छोटी गडरी, पोटली, मोटरी (सुपा ४३; ३४४)।

पुट्टिल पुं [ <sup>१</sup>पोट्टिल ] १ भगवान् महावीर का एक शिष्य, जो भविष्य में तीर्थंकर होनेवाला है (विचार ४७८)। २ एक अनुत्तर-देवलोक-गामी जैन महर्षि (अनु २)।

पुट्ट वि [ <sup>१</sup>स्पूट्ट ] १ छुआ हुआ (भग; श्रीप; हे १, १३१)। २ न. लथ (ठा २, १, नव १८)।

पुट्ट वि [ <sup>१</sup>पूट्ट ] १ पूछा हुआ (श्रीप; सण; हे २, ३४)। २ न. प्रश्न (ठा २, १)।

<sup>१</sup>लाभिय वि [ <sup>१</sup>लाभिक ] अभिग्रह-विशेष-वाला (मुनि) (श्रीप; परह २, १)।

<sup>१</sup>सेणियापरिकम्म पुंन [ <sup>१</sup>श्रेणिकापरिकर्मन् ] दृष्टिवाद का एक प्रतिपाद्य विषय (सम १२८)।

पुट्ट वि [पुट्ट] उपचित (शाया १, ३, स ४१६) ।

पुट्ट देखो पिट्ट = पृष्ठ (प्राप्र; संक्षि १६) ।

पुट्टव वि [स्पृष्टवत्] जिसने स्पर्श किया हो वह (आचा १, ७, न, न) ।

पुट्टवई देखो पोट्टवई (सुज्ज १०, ६) ।

पुट्टवया ली [प्रोटपदा] नखन-विशेष (सुज्ज १०, ५) ।

पुट्टि ली [पुट्ट] पोपण, उपचय (विसे २२१; चैइय न) । २ अहिंसा, दया (पएह २, १—पत्र ६६) । ३ म वि [मत्] ? पुष्टिवाला ।

२ पुं. भगवान् महावीर का एक शिष्य (अनु) ।

पुट्टि देखो पिट्टि = पृष्ठ; 'पात्रपडिअस्स पइणो पुट्टि पुत्ते समारहंतम्मि' (गा ११; ३३, ५७; प्राप्र; संक्षि १६) ।

पुट्टि ली [पुट्टि] पृच्छा, प्रश्न । ० य वि [ज] प्रश्न-जनित (ठा २, १—पत्र ४०) ।

पुट्टि ली [स्पृष्टि] स्पर्श । ० य वि [ज] स्पर्श-जनित (ठा २, १) ।

पुट्टिया ली [पुट्टिका] प्रश्न से होनेवाली क्रिया—कर्मबन्ध (ठा २, १) ।

पुट्टिया ली [स्पृष्टिका] स्पर्श से होनेवाली क्रिया—कर्मबन्ध (ठा २, १) ।

पुट्टिल देखो पोट्टिल (अनु २) ।

पुट्टीया ली [स्पृष्टीया] देखो पुट्टिया = स्पृष्टिका (नव १८) ।

पुट्टीया ली [पृष्टीया] पृच्छा से होनेवाली क्रिया—कर्मबन्ध (नव १८) ।

पुट्ट पुं [पुट्ट] ? परिमाण-विशेष । २ पुट्ट-परिमित वस्तु (राय ३४) ।

पुट्ट पुंन [पुट्ट] १ मिथः संबन्ध, परस्पर जोड़ान, मिलान, मिलान; 'अंजलिपुड—', 'ताहे करवलपुडेण जीओ सो' (औप; महा) ।

२ खाल, ढोल आदि का चमड़ा; 'हरुअपुड-संठाणुसंठिया' (उवा ६४ टी; गउड ११६७; कुमा) । ३ संबद्ध दलद्वय, मिला हुआ दो दल; 'सिप्पपुडसंठिया' (उवा; गउड ५७६) ।

४ औपवि पकाने का पात्र-विशेष (शाया १, १३) । ५ पत्रादि-रचित पात्र, दोनों (रंभा) ।

६ आच्छादन, ढक्कन (उवा; गउड) । ७ कमल, पत्र; 'पुडइणो' (विक्र २३) । ८ भेषुण

न [भेदन] नगर, शहर (कस) । १ वाय पुं [पाक] ? पुट्ट-पात्रों से औपवि का पाक-विशेष । २ पाक-निष्पन्न औपवि-विशेष; 'पुट्ट (? ड) वाएहि' (शाया १, १३—पत्र १८२) ।

पुड (शौ) देखो पुत्त = पुत्र (पि २६२; प्राप्र) ।

पुडइअ वि [दे] पिएडोऊत, एकत्रित (दे ६, ५४) ।

पुडइणी ली [दे. पुटकिनी] नलिनी, कमलिनी (दे ६, ५५; विक्र २३) ।

पुडग पुंन [पुटक] देखो पुट = पुट (उवा) ।

पुडपुडी ली [दे] मुँह से सीटी बजाना, एक प्रकार की श्रव्यक्त आवाज (पत्र ३८) ।

पुडम देखो पुडम (प्रति ७१; पि १०४) ।

पुडय देखो पुडग (उवा; सुपा. ६५६) ।

पुडिग न [दे] मुँह, वदन । २ विन्दु (दे ६, ८०) ।

पुडिया ली [पुटिका] पुडो, पुडिया (दे ५, १२) ।

पुड्ड (शौ) देखो पुत्त = पुत्र (प्राप्र) ।

पुडं देखो पिहं (पड) ।

पुडम वि [प्रथम] पहला (हे १, ५५; कुमा; स्वप्न २३१) ।

पुडवि° देखो पुडवी (आचानि १, १, २; भग १६, ३; पि ६७) । १ काइय, काइय वि [कायिक] पृथिवी शरीरवाला (जीव), (पएण १; भग १६, ३; ठा १; आचानि १, १, २) । २ काइय देखो पुडवी-काय (आचानि १, १, २) ।

पुडवी ली [पृथिवी] ? पृथिवी, वरती, भूमि (हे १, ८८; १३१; ठा ३, ४) । २ काठिन्यादि गुणवाला पदार्थ, द्रव्य-विशेष—

मृत्तिका, पाषाण, घातु आदि (पएण १) । ३ पृथिवीकाय का जीव (जी २) । ४ ईशानेन्द्र के एक लोकपाल की अग्र-महिषी (ठा ४, १—पत्र २०४) । ५ एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६) । ६ भगवान् सुपाश्वनाय की माता का नाम (राज) ।

काइय देखो पुडवि-काइय (राज) । काय वि [काय] पृथिवी शरीरवाला (जीव), (आचानि १, १, २) । १ मइ पुं [पति]

राजा (ठा ७) । १ सत्य न [राज] ? पृथिवी का शत्रु । २ पृथिवी का शत्रु, हल, कुदाल आदि (आचा) । देखो पुहई, पुहवी ।

पुडीभूय वि [पृथग्भूय] जो अलग हुआ हो (सुपा २३६) ।

पुडुम वि [प्रथम] पहला, आद्य (हे १, ५५; कुमा) ।

पुडो अ [पृथग्] अलग, भिन्न (सुपा ३६२; खण ३०; आचक ४०; आचा) । १ छंद वि [छन्द] विभिन्न अनिप्रायवाला (आचा; पि ७८) । २ जग पुं [जग] प्राकृत मनुष्य, माघारण लोक (सुत्र १, ३, १, ६) । ३ जिय पुं [जीव] विभिन्न प्राणी (सुत्र १: १, २, ३) । ४ विमाय, वैमाय वि [विमात्र] अनेक प्रकार का, बहुविध (राज; ठा ४, ४—पत्र २८०) ।

पुडोजग वि [दे. पृथग्जग] पृथग्भूय, भिन्न व्यस्तित; 'जमिणं जगती पुडोजगा' (सुत्र १, २, १, ४) ।

पुडोवम वि [पृथिव्युपम] पृथिवी की तरह सब सहन करनेवाला (सुत्र १, ६, २६) ।

पुडोसिय वि [पृथिवीश्रित] पृथिवी के आश्रय में रहा हुआ (सुत्र १, १२, १३; आचा) ।

पुण सक [पू] १ पवित्र करना । २ वाच्य आदि को सुपरहित करना, साफ करना । ३ पुणइ (हे ४, २४१) । ४ पुणंति (शाया १, ७) । कर्म, पुणिजइ, पुण्वइ (हे ४, २४२) ।

पुण अ [पुनर] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ भेद. विशेष (विसे ८११) । २ अवधारण, निश्चय । ३ अधिकार, प्रस्ताव । ४ द्वितीय बार, वारान्तर । ५ पक्षान्तर । ६ समुच्चय (पएह २, ३; गउड; कुमा; औय; जी ३७; प्राप् ६, ५२; १६८; स्वप्न ७२; पिण) । ७ पांडपुत्ति में भी इसका प्रयोग होता है (निचु १) । ८ करण न [करण] फिर से बनाना । २ वि. जिसकी फिर से बनावट की जाय वह; भिन्न संखं न होइ पुणकरणं (उवा) । ९ णव वि [नव] फिर से नया बना हुआ, ताजा (उप ७६८ टी; कप्पु) । १० पुण अ [पुनर] फिर-फिर, बारंबार । ११ पुणकरण न [पुनःकरण] फिर फिर बनाना, बारंबार निर्माण (दे १,

३२) । °भव पुं [°भव] फिर से उत्पत्ति, फिर से जन्म-ग्रहण (चैड्य ३५७; औप) । °भू स्त्री [°भू] फिर से विवाहित स्त्री, जिसका पुनर्लंन हुआ हो वह महिला; 'अतिय पुणव्भूकणो ति विवाहिया पञ्चनं' (कुप्र २०८; २०९) । °रवि; °रवि श्र [°अपि] फिर भी (उवा; उत १०; १६; १९) । °रावित्ति स्त्री [°आवृत्ति] पुनः आवृत्तन (पडि) । °रुत्त वि [°उक्त] फिर से कहा हुआ । २ न. पुनरुक्ति (चैड्य ५३८) । °वि श्र [°अपि] फिर भी (संक्षि १९; प्राक ८७) । °वसु पुं [°वसु] १ नक्षत्र-विशेष (सम १०; ६९) । २ आठवें वासुदेव के पूर्व जन्म का नाम (सम १५३; पउम २०, १७२) ।

पुण (अप) देखो पुण्ण = पुण्य । °मंत वि [°मन्] पुण्यशाली (पिंग) ।

पुणअ सक [°अ] देखना । पुणअइ (घाल्वा १४५) ।

पुणइ पुं [°दि] खपच, चारडाल (दे ६, ३८) ।

पुणणं वि [°पवन] पवित्र करनेवाला । स्त्री, °णी (कुमा) ।

पुणरुत्त } अ. कृत-करण, वारंवार, फिर-फिर; पुणरुत्तं } अइ सुणइ पंसुत्ति णीसहेहि अणेहि पुणरुत्तं (हे १, १७९; कुमा), 'ए वि तंह ऐअरआइवि हरंति पुणरुत्तराअरसिआइ' (गा २७४) ।

पुणा अ. देखो पुण = पुनर् (पि ३४३; पुणाइ हे १; ६५; कुमा; पउम ६, ९७; पुणाइ उवा) ।

पुणु (अप) देखो पुण = पुनर् (कुमा; पि ३४२) ।

पुणो देखो पुण = पुनर् (औप; कुमा; प्राक ८७) ।

पुणोत्त देखो पुण-रुत्त, पुणरुत्त (प्राक ३०) ।

पुणोह सक [°प्र+नोदय] १ प्रेरणा करना । २ अत्यन्त दूर करना । पुणोहयामो (उत्त १२, ५०) ।

पुण्ण पुंन [°पुण्य] १ शुभ कर्म, सुकृत (औप; महा; प्रासू ७५; पात्र) । २ दो उपवास, वेला; 'मइ पुणं (? एणं) सुही (? हिणं)

उद्धमत्तस्स एणद्धा' (संबोध ५८) । ३ वि. पवित्र, 'आणुपियाजलपुरणं' (कुमा) । कलसा स्त्री [°कलशा] लाट देश के एक गाँव का नाम (राज) । °वण पुं [°वण] विद्यावरों का एक स्वनाम-ख्यात राजा (पउम ५, ६५) । °मंत, °मत्त वि [°वन्] पुण्यवाला, भाग्यवान् (हे २, १५९; चंड) । देखो पुन्न = पुण्य ।

पुण्ण वि [°पूर्णा] १ संपूर्ण, भरपूर, पूरा (औप; भग; उवा) । २ पुं. द्वीपकुमार देवों का दाक्षिणात्य इन्द्र (इक) । ३ इक्षुवर समुद्र का अधिष्ठायक देव (राज) । ४ तिथि-विशेष, पक्ष की पाँचवीं, दसवीं और पनरहवीं तिथि (सुज १०, १५) । ५ पुंन. शिखर-विशेष (इक) । °कलस पुं [°कलशा] संपूर्ण घट (जं ?) । °वोस पुं [°घोष] ऐरवत वष का एक भावी जिन-देव (सम १५४) । °चंद्र पुं [°चन्द्र] १ संपूर्ण चन्द्रमा । २ विद्यावर वंश के एक राजा का नाम (पउम ५, ४४) । °पभ पुं [°प्रभ] इक्षुवर द्वीप का अधिपति देव (राज) । °भइ पुं [°भद्र] १ स्वनाम-ख्यात एक गृह-मति, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाई थी (अंत) । २ यज्ञ-निकाय का एक इन्द्र (४, १) । ३ पुंन. अनेक कूट-शिखरों का नाम (इक) । ४ यज्ञ का चैत्य-विशेष (औप; विपा १, १; उवा) । °मासी स्त्री [°मासी] पूर्णिमा तिथि (दे) । °सेण पुं [°सेन] राजा श्रेणिक का पुत्र, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (अनु) । देखो पुन्न = पूर्ण ।

पुण्णमासिणी स्त्री [°पूर्णा/मासी] तिथि-विशेष, पूर्णिमा (औप; भग) ।

पुण्णवत्त न [°दि] आनन्द से हृत वल्ल (दे ६, ५३; पात्र) ।

पुण्णा स्त्री [°पूर्णा] १ तिथि-विशेष, पक्ष की ५, १० और १५ वीं तिथि (संबोध ५४; सुज १०, १५) । २ पूर्णभद्र और मणिभद्र इन्द्र की एक महादेवी—अग्र-महिषी (इक; णाय्या २); 'पुण्णमहस्स एं जन्निदस्स जक्खरंती चत्तारि अगमहिषीयो परएणत्तायो तं जहा—पुत्ता (? एणा) बहुपुत्तिआ उत्तमा

तारणा; एवं माणिमहस्सवि' (ठा ४, १—पत्र २०४) ।

पुण्णाग } देखो पुत्ताग (पउम ४३, ३९; से पुण्णाम } ६, ५६; हे १, १९०; पि २३१) ।

पुण्णाली स्त्री [°दे] असती, कुलटा, पृथ्वली (दे ६, ५३; पड) ।

पुण्णाह पुंन [°पुण्याह] १ पुण्य दिन, शुभ दिवस (गा १६५; गउड) । २ वाद्य-विशेष; 'पुण्णाहत्तरेण' (स ४०१; ७३४) ।

पुण्णिमसी स्त्री [°पूर्णा/मासी] पूर्णिमा (संबोध ३६) ।

पुण्णिमा स्त्री [°पूर्णिमा] तिथि-विशेष, पूर्ण-मासी (काप्र १९४) । °चंद्र पुं [°चन्द्र] पूर्णिमा का चन्द्र (महा; हेका ४८) ।

पुण्णिमासिणी देखो पुण्णमासिणी (सम ६६; आ २९; सुज १०, ६) ।

पुत्त पुं [°पुत्र] लड़का (ठा १०; कुमा; सुपा ६९; ३३४; प्रासू २७; ७७; णाय्या १, २) ।

°वई स्त्री [°वती] लड़कावाली स्त्री (सुपा २८१) ।

पुत्तंजीवय पुं [°पुत्रंजीवक] वृक्ष-विशेष, पुत्रजीया, जियापोता का पेड़; 'पुत्तंजीवयस्सिद्धे' (परएण १—पत्र ३१) । २ न. जियापोता का वीज; 'पुत्तंजीवयमालालंकिएणं' (स ३३७) ।

पुत्तय पुं [°पुत्रक] देखो पुत्त (महा) ।

पुत्तरे पुंनो [°दे] योनि, उत्पत्ति-स्थान; 'पुत्तरे योनौ' (संक्षि ४७) ।

पुत्तलय पुं [°पुत्रक] पूतला (सिरि ८६१; ६२; ६४) ।

पुत्तलिया } स्त्री [°पुत्रिका] शालभक्षिका, पूतली पुत्तली } (पात्र; कुम्मा ६; प्रवि १३; सुपा २६६; सिरि ८१५) ।

पुत्तह देखो पुत्त (प्राक ३५) ।

पुत्ताणुपुत्तिय वि [°पौत्रानुपुत्रिक] पुत्र-पौत्रादि के योग्य, 'पुत्ताणुपुत्तियं वित्ति कप्पेति' (णाय्या १, १—पत्र ३७) ।

पुत्तिआ स्त्री [°पुत्रिका] १ पुत्री, लड़की (अभि १७८) । २ पूतली (दे ६, ६२; कुमा) ।

पुत्तिह देखो पुत्त (प्राक ३५) ।

पुत्ती स्त्री [°पुत्री] लड़की (काप्र) ।



पुत्ती स्त्री [पोती] १ वन-खरड, मुल-वन्त्रिका (पत्र ६०; संवोध ५४)। २ झाड़ी, कटी-वन्त्र (घर्मवि १७)। देखो पोत्ती।

पुत्तुल्ल पुं [पुत्र] पुत्र, लड़का (प्राक् ३५)।

पुत्थ वि [दे] मृदु, कोमल (दे ६, ५२)।

पुत्थ } पुंन [पुस्त, क] १ लेप्यादि कर्म  
पुत्थय } (श्रा १)। २ पुस्तक, पोथी,  
किताब; 'पुत्थए लिहावेइ' (कुप्र ३४८),  
'श्रवहरिओ पुत्थओ सहसा' (सम्मत्त ११८)।  
देखो पोत्थ।

पुथयी देखो पुढयी (चंड)।

पुथुणी } (पै) देखो पुढयी (प्राक् १२४;  
पुथुयी } वि १६०)। नाथ (पै) पुं [नाथ]  
राजा (प्राक् १२४)।

पुध देखो पिह = पृथक् (ठा १०)।

पुधं देखो पिधं (हे १, १८८)।

पुधम } (पै) देखो पुढम, पुढुम (पि  
पुधुम } १०४; हे ४, ३१६)।

पुत्र देखो पुण्ण = पुत्र्य; 'कह मह इत्तियापुत्ता  
जं सो दीसिज पच्चकत्त' (सुर १२, ११८; उप  
७६८ टी; कुमा)। 'कंखिअ वि [काडिक्षत,  
'काडिक्षन्] पुण्य की चाहवाला (भग)।  
'कलस पुं [कलस] एक राजा का नाम  
(उव ७६८ टी)। 'जसा स्त्री [यशास्] एक स्त्री का नाम (उप ७२८ टी)। 'पत्तिया स्त्री [प्रत्यया] एक जैन मुनि-शाखा (कम्प)। 'पिवासय वि [पिपासक] पुण्य का प्यासा, पुण्य की चाहवाला (भग)। 'भागि वि [भागिन्] पुण्य का भागी, पुण्य-शाली (सुपा ६४१)। 'सम्म पुं [शर्मन्] एक ब्राह्मण का नाम (उप ७२८ टी)। 'सार पुं [सार] एक स्वनाम-ख्यात श्रेष्ठी (उप ७२८ टी)।

पुत्र देखो पुण्ण = पूर्ण (सुर २, ६७; उप ७६८ टी; ठा २, ३; श्रु २)। 'तल पुं [तल] एक जैन मुनि-नाम (कुप्र ६)। 'पाय वि [प्राय] करीब-करीब संपूर्ण, कुछ कम पूर्ण (उप ७२८ टी)। 'भद्र पुं [भद्र] १ यज्ञ-विशेष (सिदि ६६६)। २ यज्ञ-निकाय एक इन्द्र (ठा २, ३)। ३ एक श्रान्तकृद मुनि (श्रंत १८)। ४ एक जैन मुनि,

श्रायं श्री संभूतविजय का एक शिष्य (कम्प)। पुत्रयण पुं [पुण्यजन] यज्ञ, एक देव-जाति (पाग्र)।

पुत्राग } देखो पुंनाग (कम्प; कुमा; पउम  
पुत्राम } २१, ४६; पाग्र)। ३ न. पुत्राग का  
पुत्राय } फूल (कुमा; हे १, १६०)।

पुत्रालिया } [दे] देखो पुण्णाली (सुपा  
पुत्राली } ५६६; ५६७)।

पुत्रिमा देखो पुण्णिमा (रंभा)।

पुप्पुअ वि [दे] पीन, पुष्ट, उपचित (दे ६, ५२)।

पुप्फ न [पुप्फ] १ फूल, कुसुम (शाया १, १; कम्प; सुर ३, ६५; कुमा)। एक विमानावास,

देवविमान-विशेष (देवेन्द्र ३३५; सम ३८)। ३ स्त्री का रज। ४ विकार। ५ श्रांति का एक रोग। ६ कुवेर का विमान (हे १, २३६; २, ५३; ६०, १५४)। 'इरि पुं [गिरि] एक पर्वत का नाम (पउम ७६, १०)।

'कंत न [कान्त] एक देव-विमान; 'पुप्फ-कंत' (सम ३८)। 'करंडय पुं [करण्डक] हस्तिशायं नगर का एक उद्यान, 'पुप्फकरंडए उज्जाणे' (विपा २, १)। 'केउ पुं [केतु] १ ऐरवत क्षेत्र का सातवां भावी तीर्थकर—

जिनदेव (सम १५४)। २ ग्रह-विशेष, ग्रहा-विधायक देव-विशेष (ठा २, ३)। 'ग न [क] १ मूल भाग; 'माणस पुप्फगंतो इमेहि कप्जेहि पडिलेहे' (श्रीघ २८६)। २ पुष्प, फूल (कम्प)। ३ देखो नीचे 'य (श्रीप)।

'चूला स्त्री [चूला] १ अगवान् पार्वनाथ की मुख्य शिष्या का नाम (सम १५२; कम्प)। २ एक महासती, श्रान्तिकाचार्य की सुयोग्य शिष्या (पडि)। ३ सुवाहुकुमार की मुख्य पत्नी का नाम (विपा २, १)। 'चूलिया स्त्री [चूलिका] एक जैन ग्रन्थ (निर १, ४)। 'चणिया स्त्री [चर्चनिका] पुष्पों से पूजा (शाया १, २)। 'चणिया स्त्री [चायिनी] फूल विननेवाली स्त्री (पाग्र)।

'छानिया स्त्री [छादिका] पुष्प-वाच-विशेष (राज)। 'ऊक्य न [ऊज] एक देव-विमान (सम ३८)। 'णदि पुं [नन्दिन्] एक राजा का नाम (ठा १०)। 'णालिया देखो 'नालिया (तंडु)। 'दंत पुं [दन्त] १ नववां जिनदेव, श्री सुविधिनाथ (सम ६२;

ठा २, ४)। २ ईशानेन्द्र के हस्ति-चैत्य का श्रावणपति देव (ठा ५, १; इक)। ३ देव-विशेष (सिदि ६६७)। 'दंती स्त्री [दन्ती] दमयन्ती की माता का नाम, एक रानी (कुप्र ४८)। 'नालिया स्त्री [नालिका] पुष्प का बोट—डंडल (तंडु ४)। 'निजास पुं [निर्यास] पुष्प-रस (जीव ३)। 'पुर न [पुर] पाटलिपुत्र, पटना शहर (राज)। 'पूरय पुं [पूरक] पुष्प की रचना-विशेष (शाया १, १६)। 'पपभ न [प्रभ] एक देव-विमान (सम ३८)। 'वलि पुं [वलि] उपचार, पुष्प-पूजा (पाग्र)। 'वाण पुं [वाण] कामदेव (रंभा)। 'भद्र स्त्री [भद्र] नगर-विशेष, पटना शहर (राज)। 'मंत वि [वत्] पुष्पवाला (शाया १, १)। 'माल न [माल] वंताव्य की उत्तर श्रेणि का एक नगर (इक)। 'माला स्त्री [माल] ऊर्ध्वं लोक में रहनेवाली एक दिक्कुमारो देवी (ठा ८—पत्र ४३७)। 'य पुं [क] १ फेन, डिण्डोर (पाग्र)। २ न. ईशानेन्द्र का एक पारियायिक विमान, देव-विमान-विशेष (ठा ८; इक; पउम ७६, २८; श्रीप)। ३ पुष्प, फूल (कम्प)। ४ ललाट का एक पुष्पाकार आनूपण (जं २)। देखो ऊपर 'ग। 'लाई, 'लायी स्त्री [लायी] फूल विननेवाली स्त्री (पाग्र; दे १, ६)। 'लेस न [लेस्य] एक देव-विमान (सम ३८)। 'वई स्त्री [वती] १ श्रुतमती स्त्री (दे ६, ६४; ना ४८०)। २ सत्पुरुष नामक किपुरु-पेन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ४, १; शाया २)। ३ वीसवें जिनदेव की प्रवर्तिनी—प्रमुख साध्वी का नाम (सम १५२; पत्र ६)। ४ चैत्य-विशेष (भग)। 'वण्ण न [वर्ण] एक देव-विमान (सम ३८)। 'सिग न [शृङ्ग] एक देव-विमान (सम ३८)। 'सिद्ध न [सिद्ध] देव-विमान-विशेष (सम ३८)। 'सुय पुं [शुक] व्यक्ति-वाचक नाम (उव)। 'वित्त न [वित्त] एक देव-विमान (सम ३८)।

पुप्फस न [दे] फेफटा, शरीर का एक भीतरी अंग (पउम १०५, ५५)।

पुष्पा स्त्री [दे] फूफो, पिता की बहिन (दे ६, ५२)।

पुष्पिअ वि [पुष्पित] कुसुमित, संजात-  
पुष्प (वर्मवि १४८; कुमा; राया १; ११;  
सुपा ५८)।

पुष्पिआ स्त्री [दे] देखो पुष्पा (पात्र)।

पुष्पिआ स्त्री [पुष्पिता] एक जैन आगम-  
ग्रंथ (निर १, ३)।

पुष्पिम पुंस्त्री [पुष्पत्व] पुष्पपन (हे ३,  
१५४)।

पुष्पी [दे] देखो पुष्पा (पड्)।

पुष्फुआ स्त्री [दे] करीप (नोयठा) का अग्नि,  
'सूइजइ हेमंतम्मि दुग्गओ पुष्फुआसुअण्णै'  
(गा ३२९)।

पुष्फुत्तर न [पुष्पोत्तर] एक विमान (कप्प)।  
'वडिंसग न [त्रितंसक] एक देव-विमान  
(सम ३८)।

पुष्फुत्तरा स्त्री [पुष्पोत्तरा] शक्कर की  
पुष्फोत्तरा एक जाति (राया १, १७—  
पत्र २२६; परण १७—पत्र ५३३)।

पुष्फोदय न [पुष्फोदक] पुष्प-रस से मिश्रित  
जल (राया १, १—पत्र १६)।

पुष्फोवय वि [पुष्फोपग] पुष्प प्राप्त  
पुष्फोवा करनेवाला, फूलनेवाला (वृक्ष)  
(ठा ३, १—पत्र ११३)।

पुम पुं [पुंस्] १ पुत्र, नर; 'वीअपुमाणं  
विमुज्झता' (पंच ५, ७२), 'पुमत्तमागम्म  
कुमार दोवि' (उत्त १४, ३; ठा ८; श्रौप)।  
२ पुत्र-वेद (कम्म ५, ६०)। °आणमणी  
स्त्री [°आजापनी] पुत्र को आज्ञा देनेवाली  
भापा, भापा-विशेष (परण ११)। °पन्नावणी  
स्त्री [प्रज्ञापनी] भापा-विशेष; पुत्र के  
लक्षणों का प्रतिपादन करनेवाली भापा  
(परण ११—पत्र ३६४)। °वयण न  
[°वचन] पुलिग शब्द का उच्चारण (परण  
११—पत्र ३७०)।

पुम्म (अप) सक [दश] देखना। पुम्मइ  
(आकृ ११६)।

पुयली स्त्री [दे] पुत्र-प्रदेश, कमर के नीचे  
का भाग; 'पुयलि पप्फोडेमाणे' (भग १५—  
पत्र ६७६)।

पुयावइत्ता देखो पुआव।

पुर (अप) देखो पूर = पूर्य। पुरह (पिग)।

पुर न [पुर] १ नगर, शहर (कुमा; कुप्र  
४३८)। २ शरीर देह (कुप्र ४३८)। °चंद  
पुं [°चन्द्र] विद्याधर वंश का एक राजा  
(पउम ५, ४४)। °भेयण वि [°भेदन]  
नगर का भेदन करनेवाला। स्त्री—°णी  
(उत्त २०, १८)। °वइ पुं [°पति] नगर  
का अधिपति (भवि)। °वर न [°वर]  
श्रेष्ठ नगर (उवा; परह १, ४)। °वरी स्त्री  
[°वरा] श्रेष्ठ नगरी (राया १, ६; उवा;  
सुर २, १५२)। °वाल पुं [°पाल] नगर-  
रक्षक, राजा (भवि)।

पुर देखो पुरं; 'पुरकम्मम्मि यपुच्छा' (बृह १)।

पुरएअ } देखो पुरदेव (भवि)।  
पुरएव }

पुरओ अ [पुरत्स] १ अग्रतः, आगे (सम  
१५१; ठा ४, २; गा ३५०; कुमा; श्रौप)।  
२ पहले, पूर्व में; 'पुरओ कयं जं तु तं  
पुरेकम्म' (शोध ४८६)।

पुरं अ [पुरस्] १ पहले, पूर्व में। २  
समस्त; 'तए णं से वरिइं समुक्किइं समाणे  
पच्छा पुरं च णं विजलभोगसमितिसमन्नागते  
यावि विहरिज्जा' (ठा २, १—पत्र ११७)।  
३ अग्रे, आगे। °गम वि [°गम] अग्र-  
गामी, पुरोवर्ती (सूअ १, ३, ३, ६)। देखो  
पुरे, पुरो।

पुरंजय पुं [पुरञ्जय] एक विद्याधर राजा।  
°पुर न [°पुर] एक विद्याधर-नगर (इक)।

पुरंदर पुं [पुरन्दर] १ इन्द्र, देवराज। २  
गन्ध-द्रव्य-विशेष (हे १, १७७)। ३ वृक्ष-  
विशेष, चव्य जा पेड़; 'पुरंदरकुसुमदाम-  
सुविणेण सूइया जाया' (उप ६८६ टी)।  
४ एक राजपि (पउम २१, ८०)। ५ मन्दर-  
कुञ्ज नगर का एक विद्याधर राजा (पउम  
६, १७०)। °जसा स्त्री [°यशास्] एक  
राज-कन्या का नाम (उप ६७३)। °दिसि  
स्त्री [°दिश] पूर्व दिशा (उप १४२ टी)।

पुरंधि स्त्री [पुरन्धी] १ बहु कुटुम्बवाली  
पुरंधी स्त्री। २ पति और पुत्रवाली स्त्री  
(कुमा; कुप्र १०७; सुपा २६; पात्र)। ३  
अनेक काल पहले व्याही हुई स्त्री (कप्प)।

पुरकड देखो पुरक्खड (सूअ २, २, १८)।

पुरकार पुं [पुरस्कार] १ आगे करना; अग्रतः  
स्थापन (आचा)। २ सम्मान, आदर  
(सम ४०)।

पुरक्खड वि [पुरक्खल] १ आगे किया हुआ  
(आ ६)। २ पुरोवर्ती, आगामी; 'गहणं-  
समयपुरक्खडे पोगले उदीरंति' (भग १, १)।

पुरच्छा देखो पुरत्था (राज)।

पुरच्छिम देखो पुरत्थिम (ठा २, ३—पत्र  
६७; मुज्ज २०—पत्र २८७; पि ५६५)।

°दाहिणा स्त्री [°दक्षिणा] पूर्व-दक्षिण  
दिशा, अग्निकोण (ठा १०—पत्र ४७८)।

पुरच्छिमा देखो पुरत्थिमा (ठा १०—पत्र  
४७८)।

पुरच्छिमिल्ल देखो पुरत्थिमिल्ल (सम ६६)।

पुरत्थ वि [पुरस्थ] आगे रहा हुआ, अग्र-  
वर्ती, पुरस्तर, 'पुरत्थं होइ सहायं एणे समं  
तेण' (उप १०३१ टी), 'जेण गहिण्णरात्था  
इत्य परत्थावि हू पुरत्था' (आ १४)।

पुरत्थ अ [पुरस्तात्] १ पहले, काल  
पुरत्थओ या देश की अपेक्षा से आगे; 'तपुर-  
पुरत्था पुरत्थमाए' (सुपा ३६०), 'मोसस्स  
पच्छा य पुरत्थओ य' (उत्त ३२, ३१),  
'आदीणियं दुक्कडियं पुरत्था' (सूअ १, ५,  
१, २)। २ पूर्वदिशा; 'पुरत्थामिसुहे' (कप्प;  
श्रौप; भग; राया १, १—पत्र १६)।

पुरत्थिम वि [पौरस्त्य, पूर्व] १ पूर्व की  
तरफ का; 'उत्तर-पुरत्थिमे दिसीभाए' (कप्प;  
श्रौप)। २ न, पूर्व दिशा; 'पुरतो पुरत्थिमेण'  
(राया १; १—पत्र ५४; उवा)।

पुरत्थिमा स्त्री [पूर्वा] पूर्व दिशा; 'पुरत्थिमाओ  
वा दिसाओ आगमो' (आचा; मुच्छ १५८ टि)।

पुरत्थिमिल्ल वि [पौरस्त्य] पूर्व दिशा का,  
पूर्व दिशा में स्थित (विपा १, ७, पि ५६५)।

पुरदेव पुं [पुरादेव] भगवान् आदिनाथ,  
'पुरदेवजिण्णस्स निव्वाणं' (पउम ४, ८७)।

पुरव देखो पुव्व (गजड; हे ४, २७०; ३२३)।

पुरस्सर वि [पुरस्सर] अग्रगामी (कप्प)।

पुरा स्त्री [पुर] नगरी, शहर (हे १, १६)।

पुरा देखो पुरिद्धा = पुरा (सूअ १, १, २,  
२४; विपा १, १)। °इय, °कय वि [°कृत]  
पूर्व काल में किया हुआ (भवि; कुप्र ३१६)।

°भव पुं [°भव] पूर्व जन्म (कुप्र ४०६)।

पुराअण वि [पुरातन] पुराना, प्राचीन ।  
स्त्री: °गी (नाट—चैत १२१) ।

पुराकर सक [पुरा + कृ] आगे करना ।  
पुराकरति (सूत्र १, ५, २, ५) ।

पुराण वि [पुराण] १ पुराना, पुरातन  
(गण्ड; उक्त ८, १२) । २ न. व्यासादि-  
मुनि-प्रणीत ग्रन्थ-विशेष, पुरातन इतिहास के  
द्वारा जिसमें धर्म-तत्त्व निरूपित किया जाता  
हो वह शास्त्र (धर्मवि ३८; भवि) । °पुरिस  
पुं [°पुरुष] श्रीकृष्ण (वक्ता १२२) ।

पुरिकोवेर पुं. व. [पुरीकौवेर] देश-विशेष  
(पञ्चम २८, ६७) ।

पुरित्थिमा देखो पुरत्थिमा (सूत्र २, १, ६) ।

पुरिम देखो पुञ्च = पूर्वं (हे २, १३५; प्राकृ  
२८; भग; कुमा); 'पंचवओ खलु धम्मो  
पुरिमस्त य पच्छिमस्त य जिणस्त' (पव  
७४; पंचा १७, १) । °ड्ड पुंन [°धि]  
१ पूर्वाधं । २ प्रत्याख्यान-विशेष (पंचा ५;  
पडि) । ३ तप-विशेष, निर्विकृतिक तप  
(संघोष ५७) । °ड्ढिय वि [°धि]क  
'पुरिमड्ढ' प्रत्याख्यान करनेवाला (परह २,  
१; ङा ५, १) ।

पुरिम वि [पौरस्त्य] अग्र-भव, अग्रेतन, आगे  
का; 'इय पुञ्चुत्तज्जे भाणुसु पढमदुगि खु  
मिच्छन्त' । पुरिमदुगे सम्मत' (संघोष ५२) ।

पुरिम पुं [दे] प्रस्फोटन, प्रतिलेखन की क्रिया-  
विशेष, 'छ पुरिमानव खोज' (शोध २६५) ।

पुरिमताल न [पुरिमताल] नगर-विशेष  
(विपा १, ३; औप) ।

पुरिमिह वि [पूर्वीय] पहले का, पुरातन,  
प्राचीन; 'आसि नरा पुरिमिल्ला, ता कि  
अम्हेवि तह होमो' (वेद्य ११५) ।

पुरिल पुं [दे] दैत्य, दानव (पड्) ।

पुरिल वि [पुरातन] पुरा-भव, पहले का,  
पूर्ववर्ती (विसे १३२६; हे २, १६३) ।

पुरिल वि [पौरस्त्य] पुरो-भव, पुरो-वर्ती,  
अग्र-गामी (से १३, २; हे २, १६३; प्राप्र;  
पड्) ।

पुरिल वि [पौर] पुर-भव, नागरिक (प्राकृ  
३५; हे २, १६३) ।

पुरिल वि [दे] प्रवर, श्रेष्ठ (दे ६, ५३) ।

पुरिल देखो पुरिल्ला = पुरा, पुरस्; 'पुरिल्लो'  
(हे २, १६४ टि; पड्) ।

पुरिलदेव पुं [दे] असुर, दानव (दे ६, ५५) ।

पुरिलपहाणा स्त्री [दे] साँप की दाढ़ (दे ६,  
५६) ।

पुरिल्ला अ [पुरा] १ निरन्तर क्रिया-करण,  
विच्छेद-रहित क्रिया करना । २ प्राचीन,  
पुराना । ३ पुराने समय में । ४ भावी । ५  
निकट, सन्निकट । ६ इतिहास, पुरावृत्त (हे  
२, १६४) ।

पुरिल्ला अ [पुरस्] आगे, अग्रतः (हे २,  
१६४) ।

पुरिस पुंन [पुरुष] १ पुमान्, नर, मर्द (हे  
१, १२४; भग; कुमा; प्रासु १२६); 'इत्थोणि  
वा पुरिसाणि वा' (आवा २, ११, १८) ।  
२ जीव, जीवात्मा (विसे २०६०; सूत्र २,  
१, २६) । ३ ईश्वर (सूत्र २, १, २६) ।

४ शङ्कु, द्याया नापने का काष्ठादि-निर्मित  
कीलक । ५ पुरुष-शरीर (एदि) । °कार,  
°कार, °गार पुं [°कार] १ पौष्य, पुरुषपन,  
पुरुष-चेष्टा, पुरुष-प्रयत्न (प्रासु ४३; उवा; सुर  
२, ३५; उवर ४७) । २ पुरुषत्व का  
अभिमान (औप) । °जाय पुं [°जात] १

पुरुष । २ पुरुष-जातीय (सूत्र २, १, ६; ७;  
ठा ३, १; २; ४, १) । °जुग न [°जुग]  
क्रम-स्थित पुरुष (सम ६८) । °जेट्ट पुं  
[°ज्येष्ठ] प्रशस्त पुरुष (पंचा १७, १०) ।

°त्त, °त्तग न [°त्व] पौष्य, पुरुषपन; 'नहि  
नियजुवइसलहिया पुरिसा पुरिसत्तणमुविति'  
(सुर २, २४; महा; सुपा ८४) । °थ पुं  
[°थ] धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुष-  
प्रयोजन; 'सयलपुरिसत्त्वकारणमइडुलहो

माणुसो भवो एसो' (धर्मवि ८२; कुमा;  
सुपा १२६) । °पुंडरीअ पुं [°पुण्डरीक]  
इस अवसर्पिणी काल में उत्पन्न पद्म वासुदेव  
(पव २१०) । °पणीय वि [°प्रणीत] १

ईश्वर-निर्मित । २ जीव-रचित (सूत्र २, १,  
२६) । °मेह पुं [°मेध] यज्ञ-विशेष, जिसमें  
पुरुष का होम किया जाय वह यज्ञ (राज) ।

°थार देखो °कार (गण्ड; सुर २, १६; सुपा  
२७१) । °लक्षण न [°लक्षण] कला-  
विशेष, पुरुष के शुभाशुभ चिह्न पहचानने की

एक सामुद्रिक कला (जं २) । °लिंग, न  
[°लिङ्ग] पुरुष-चिह्न । °लिंगसिद्ध पुं  
[°लिङ्गसिद्ध] पुरुष-शरीर से जो मुक्त हुआ  
हो वह (एदि) । °व्यण न [°वचन]  
पुलिन शब्द (आवा २, ४, १, ३) । °वर पुं  
[°वर] श्रेष्ठ पुरुष (औप) । °वरगंधहृत्थि पुं  
[°वरगन्धहृत्थिन्] १ पुरुषों में श्रेष्ठ  
गन्धहृत्थि के तुल्य । २ जिन-देव (भग; पडि) ।  
°वरपुंडरीय पुं [°वरपुण्डरीक] १ पुरुषों  
में श्रेष्ठ पद्म के समान । २ जिन-देव, अहंन्  
(भग; पडि) । °विजय पुं [°विजय,  
°विजय] ज्ञान-विशेष (सूत्र २, २, २७) ।  
°वेय पुं [°वेद] १ कर्म-विशेष, जिसके  
उदय से पुरुष को छी-संभोग की इच्छा होती  
है वह कर्म । २ पुरुष को छी-भोग की अभि-  
लाषा (परण २३; सम १५०) । °सिह,  
°सीह पुं [°सिंह] १ पुरुषों में सिंह के  
समान, श्रेष्ठ पुरुष । २ पुं. जिनदेव, जिन  
भगवान् (भग; पडि) । ३ भगवान् धर्मनाय  
के प्रथम श्रावक का नाम (विचार ३७८) ।  
४ इस अवसर्पिणी काल में उत्पन्न पाँचवाँ  
वासुदेव (सम १०५; पञ्चम ५, १५५; पव  
२१०) । °सेण पुं [°सेन] १ भगवान्  
नेमिनाय के पास दीक्षा लेकर मोक्ष जानेवाला  
एक अन्तर्हृद् मर्हपि, जो वासुदेव के अग्रतम  
पुत्र थे (अंत १४) । २ भगवान् महावीर के  
पास दीक्षा लेकर अनुत्तर विमल में उत्पन्न  
होनेवाले एक मुनि, जो राजा श्रेणिक के  
पुत्र थे (अनु १) । °दाणिअ, °दाणीय पुं  
[°दानीय] उपादेय पुरुष, आप्त पुरुष (सम  
१३; कप्प) ।

पुरिसकारिआ स्त्री [पुरुषकारिका, °ता]  
पुरुषार्थ, प्रयत्न (दत्त, ५, २, ६) ।

पुरिसाअ अक [पुरुषाय] विपरीत मैथुन  
करना । वक्. पुरिसाअंत (गा १६६; ३६१) ।

पुरिसाइअ न [पुरुषायित] विपरीत मैथुन  
(दे १, ४२) ।

पुरिसाइर वि [पुरुषायितृ] विपरीत स्त  
करनेवाला, 'दरपुरिसाइरि विसमिरि सुजाण  
पुरिसाण जं दुक्ख' (गा ५२; ४४६) ।

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

पुरिसुत्तम पुं [पुरुषोत्तम] १ उत्तम  
पुरिसोत्तम पुं पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन-

देव, ग्रहन् (सम १; मग; पडि) । ३ चौवा  
त्रिखण्डाधिपति, चतुर्थ वामुदेव (सम ७०;  
पठम ५, १५५) । ४ मगवान् अनन्तनाथ का  
प्रथम थावक (त्रिचार ३७८) । ५ श्रीछण्ण  
(सम्मत २२६) ।

पुरी की [पुरी] नगरी, शहर (कुमा) । °नाह  
पुं [°नाथ] नगरी का अधिपति, राजा (उप  
७२८ टी) ।

पुरीस पुं [पुरीस] विष्ठा (राया १, ८;  
उप १३६ टी; ३२० टी; पात्र); 'मुत्तपुरीसे  
य पिकवति' (धर्मवि १६) ।

पुरु पुं [पुरु] १ स्व-नाम-ख्यात एक राजा  
(अभि १७६) । २ वि. प्रचुर, प्रसूत । टी.  
°ई (प्राक २८) ।

पुरुपुरिआ की [दे] उत्करा, उत्सुकता  
(दे ६, ५) ।

पुरुमिह देखो पुरिमिह (गडड) ।

पुरुव } देखो पुरुव = पूव; 'ए शरिसो  
पुरुव } विदुपुवो' (स्वप्न ५५), 'अमद-  
आणंदगुं दलपुवव' (सुपा २२, नाट—मृच्छ  
१२१; पि १२५) ।

पुरुस (शौ) देखो पुरिस (प्राक ८३; स्वप्न  
२६; अवि ८५; प्रयो ६६) ।

पुरुसोत्तम (शौ) देखो पुरिसोत्तम (पि  
१२४) ।

पुरुहअ पुं [दे] वृक, उल्लू (दे ६, ५५) ।

पुरुहअ पुं [पुरुहअ] इन्द्र, देव-राज (गडड) ।

पुरुहव पुं [पुरुहवस्] एक चंद्र-वंशीय  
राजा (पि ४०८; ४०९) ।

पुरे देखो पुरं; 'जस्स नत्थि पुरे पच्छा मज्जे  
तस्स कुओ सिवा' (आचा) । °कड वि [°कृत]  
आगे किया हुआ, पूर्व में किया हुआ (श्रीप;  
सूत्र १, ५; २, १; उत १०, ३) । °कम्म  
न [°कर्मन्] पहले करने का काम; पूर्व में  
की जाती क्रिया; 'पुरओ कयं जं तु तं पुरेकम्म'  
(श्रीप ४८६; हे १, ५७) । °कार पुं [°कार]  
सम्मान, आदर (उत २६, ७; सुव २६, ७) ।  
°कखड देखो °कड (परण ३६—पत्र ७६६;  
परह १, १) । °वाय पुं [°वात] १ सल्लेह  
वायु । २ पूर्व दिशा का पवन (राया १,  
११—पत्र १७१) । °संखडि की [दे]

संस्कृति] पहले ही किया जाता जिनवार  
—भोजनोत्सव; (आचा २, १, २, ६; २, १  
४, १) । °संथुय वि [°संस्तुत] १ पूर्व-  
परिचित । २ स्व-पदा का सगा (आचा २,  
१, ४, ५) ।

पुरेस पुं [पुरेश] नगर-स्वामी (भवि) ।

पुरो देखो पुरं (मोह ४६; कुमा) । °अ, °ग  
वि [°ग] अग्रगामी, अग्रोत्तर (प्रति ४०; विते  
२५४८) । °गम वि [°गम] वही अर्थ  
(उप पृ ३५१) । °भाइ वि [°भागिन्]  
दोष को छोड़ कर गुण-मात्र को ग्रहण करने  
वाला (नाट—विक्र ६७) ।

पुरोकर सक [पुरस् + कृ] १ आगे करना ।  
२ स्वीकार करना । ३ सम्मान करना । संकृ.  
पुरोकरिअ, पुरोकाडं (ना १६; सूत्र १,  
१, ३, १५) ।

पुरोत्तमपुर न [पुरोत्तमपुर] एक विद्यावर-  
नगर का नाम (इक) ।

पुरोवग पुं [पुरोवक] वृक्ष-विशेष (श्रीप) ।

पुरोह पुं [पुरोधस्] पुरोहित (उप ७२८  
टी; धर्मवि १४६) ।

पुरोहड वि [दे] १ विपय, असम । २  
पच्छोकड (?) (दे ६, १५) । ३ पुंन.  
श्रावृत भूमि का वास्तु (दे ६, १५) । ४  
अग्रदार, दरवाजा का अग्रभाग (श्रीप ६२२) ।  
५ वाडा, वाटक; 'संकासमए पत्ते मज्ज वलहा  
पुरोहडसंतो । मह दिट्ठीए दंसिअि ठापयन्वा'  
(सुपा ५४५; वृह २) ।

पुरोहिअ पुं [पुरोहित] पुरोवा, याजक, होम  
आदि से शान्ति-कर्म करनेवाला ब्राह्मण  
(कुमा; काल) ।

पुल पुं [दे. पुल] छोटा फोड़ा, कुनसी; 'ते  
पुला मिज्जति' (ठा १०—पत्र ५२१) ।

पुल वि [पुल] समुच्चिद्रत, उन्नत; 'पुलनिपुलाए'  
(दस १०, १६) ।

पुल अक [पुल] उन्नत होना (दस १०,  
१६) ।

पुल } सक [दृश] देखना । पुलइ, पुलअइ  
पुलअ } (प्राक ७१; हे ४, १८१; प्राप्र ८,  
६६) । पुलएइ (गडड १०६३), पुलएमि  
(गा ५३१) । वक. पुलंत, पुलअंत, पुलएंत  
(कप्पु; नाट—मालवि ६; पठम ३, ७७; न,

१६०. सुर ११, १२०, १२, २०४; ७.  
२१२) । संकृ. पुलइअ (स ६८६) ।

पुलअ पुं [पुलक] १ रोमाञ्च (कुमा) । २  
रत्न-विशेष, मणि की एक जाति (परण १;  
उत ३६, ७७; कप्प) । ३ जलचर जन्तु-  
विशेष, ग्राह का एक भेद; 'सीमागारपुलु(त)-  
यत्तुमुमार—' (परह १, १—पत्र ७) ।  
°कंड पुंन [°काण्ड] रत्नप्रभा नरक-पृथिवी  
का एक काण्ड (ठा १०) ।

पुलअण वि [दर्शन] देखनेवाला, प्रेक्षक  
(कुमा) ।

पुलअण न [पुलकत] पुलकित होना (कप्पु) ।

पुलआअ अक [उत् + लस्] उल्लसित  
होना, उल्लास पाना । पुलआअइ (हे ४,  
२०२) । वक. पुलआअमाण (कुमा) ।

पुलइअ वि [दृष्ट] देखा हुआ (गा ११८; सुर  
१४, ११; पात्र) ।

पुलइअ वि [पुलकित] रोमाञ्चित (पात्र;  
कुमा ४, १६; कप्प; महा; गा २०) ।

पुलइअ अक [पुलकाय] रोमाञ्चित होना ।  
वक. पुलइअंत (तण) ।

पुलइअ वि [पुलकिन्] रोमाञ्च-युक्त, रोमा-  
ञ्चित (वजा १६४) ।

पुलएंत देखो पुलअ = हस् ।

पुलंधअ पुं [दे] भ्रमर, भौरा (पड) ।

पुलंपुल न [दे] अनवरत, निरन्तर (परह १,  
३—पत्र ४५; श्रीप) ।

पुलक } देखो पुलअ = पुलक (पि २०३ टि;  
पुलग } राया १, १; सम १०४; कप्प) ।

पुलय पुंन [पुलक] कोट-विशेष (आचा २,  
१३, १) ।

पुलाग पुंन [पुलाक] १ असार अन्न, 'धन-  
पुलाय } मसारं भन्नइ पुलायसहेण' (संबोध  
२८; पत्र ६३); 'निस्सारए होइ जहा पुलाए'  
(सूत्र १, ७, २६) । २ चना आदि शुष्क  
अन्न (उत ८, १२; सुख ८, १२) । ३ लह-  
सुन आदि दुर्गन्ध द्रव्य । ४ दुष्ट रसवाला  
द्रव्य; 'तिविहं होइ पुलागं धरणे गंधे यरस-  
पुलाए य' (वृह ५) । ५ पुं. अर्पण संयम की  
निस्सार बनानेवाला मुनि; शिथिलाचारी  
साधुओं का एक भेद (ठा ३, २; ५, ३;  
संबोध २८; पत्र ६३) ।

पुलासिअ पुं [दि] अग्नि-कण (दे ६, ५५)।  
पुलिन्द पुं [पुलिन्द] १ अनायं देश-विशेष  
(इक)। २ पुंज्ञी. उस देश में रहनेवाला मनुष्य  
(पएह १, १; औप; कप्पु; ज्व)। स्त्री. 'दी'  
(गाया १, १; औप)।

पुलिग न [पुलिग] तट, किनारा; 'ओइएणो  
नइपुलिगाओ' (पउम १०, ५४)। २ लगातार  
बाईस दिनों का उपवास (संबोध ५८)।

पुलिय न [पुलिय] गति-विशेष (औप)।

पुलुट्ट वि [प्लुट्ट] दग्ध (पाप्र)।

पुलोअ सक [दृश, प्र + लोक्] देखना।

पुलोएइ (हे ४, १८१; सुर १, ८६)। वक्क.

पुलअंत, पुलोएंत (पि १०४; सुर ३,  
११८)।

पुलोअण न [दृशन, प्रलोकन] विलोकन (दे  
६, ३०; गा ३२२)।

पुलोइअ वि [दृष्ट, प्रलोकित] १ देखा हुआ  
(सुर ३, १६४)। २ न. अवलोकन (से ७,  
५६)।

पुलोएंत देखो पुलोअ।

पुलोम पुं [पुलोमन्] देत्य-विशेष। 'तणया  
' स्त्री [तनया] शची, इन्द्राणी (पाप्र)।

पुलोमी स्त्री [पौलोमी] इन्द्राणी (प्राक १०;  
हे १, १६०)।

पुलोव देखो पुलोअ। पुलोवेदि (शौ) (पि  
१०४)।

पुलोस पुं [प्लोप] बाह, दहन (गडड)।

पुल [दे] देखो पोल (सुख ६, १)।

पुल्लि पुंज्ञी [दे] १ व्याघ्र, शेर (दे ६, ७६;  
पाप्र)। २ सिंह, पञ्चानन, मुगेन्द्र (दे ६,  
७६)। स्त्री. 'को पियइ पयं च पुल्लिए' (सुपा  
३१२)।

पुव } सक [प्लु] गति करना, चलना।  
पुव्व } पुव्वति (पि ४७३), पुव्वति (भग  
१५—पत्र ६७०; टी—पत्र ६७३)।

पुव्वं देखो पुणं = पू।

पुव्व वि [पूर्व] १ दिशा, देश और काल को  
अपेक्षा से पहले का, श्राव, प्रथम (ठा ४, ४;  
जी १; प्राप् १२२)। २ समस्त, संकल।  
३ ज्येष्ठ ज्ञाता (हे २, १३५; पड)। ४ पुंन.  
काल-मान-विशेष, चौरासी लाख को चौरासी

लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो उत्तरे  
वर्ष (ठा २, ४; सम ७४; जी ३७; इक)।

५ जैन ग्रन्थांश-विशेष, बारहवें अंग-ग्रन्थ का  
एक विशाल विभाग, अव्ययन, परिच्छेद;  
'चोइसपुव्वी' (विपा १, १)। ६ द्रव्य,  
वधु-नर आदि युग्म; 'पुव्वट्टाणाणि' (आचा  
२, ११, १३)। ७ पूर्व-ग्रन्थ का ज्ञान (कम्म  
१, ७)। ८ कारण, हेतु (वादि)। 'कालिय  
वि [कालिक] पूर्व काल का, पूर्व काल से  
संबन्ध रखनेवाला (पएह १, २—पत्र २८)।

'गय न [गत] जैन शास्त्रांश-विशेष, बारहवें  
अंग का विभाग-विशेष (ठा १०—पत्र ४६१)।

'ण्ह पुं [हण] २ दिन का पूर्व भाग,  
सुबह से दो पहर तक का समय (हे १,  
६७)। २ तप-विशेष, 'परिमड्डु' तप (संबोध  
५८)। 'तव पुंन [तपस्] वीतराग

श्रवस्या के पहले का—सराग श्रवस्या का  
तप (भग)। 'दारिअ वि [द्वारिक] पूर्व

दिशा में गमन करने में कल्याण-कारी (नक्षत्र)  
(सम १२)। 'द्व पुंन [ध्व] पहला आवा

(नाट)। 'धर वि [धर] पूर्व-ग्रन्थ का ज्ञान-  
वाला (पएह २, १)। 'पय न [पद]

उत्सर्ग-स्थान (निच्च १)। 'पुड्डवया स्त्री  
[प्रोष्टपदा] नक्षत्र-विशेष (सुज १०, ५)।

'पुरिस पुं [पुरुष] पूर्वज, पुरखा (सुर २,  
१६४)। 'पपओग पुं [प्रयोग] पहले की

क्रिया, पूर्व काल का प्रयत्न (भग ८, ६)।

'फग्गुणी स्त्री [फाल्गुनी] नक्षत्र-विशेष  
(राज)। 'भद्वयया स्त्री [भाद्रपदा] नक्षत्र-

विशेष (राज)। 'भव पुं [भव] गत जन्म,  
अतीत जन्म (गाया १, १)। 'भविय वि

[भविक] पूर्वजन्म-संबंधी (भवि)। 'य पुं  
[ज] पूर्व पुरुष, पुरखा (सुपा २३२)।

'रत्त पुं [रात्र] रात्रि का पूर्व भाग (भग;  
महा)। 'व न [वत्] अनुमान प्रमाण

का एक भेद (अणु)। 'विदेह पुं [विदेह]  
महाविदेह वर्ष का पूर्वोय हिस्सा (ठा २, ३;  
इक)। 'समास पुंन [समास] एक से

ज्यादा पूर्व-शब्दों का ज्ञान (कम्म १, ७)।

'सुय न [श्रुत] पूर्व का ज्ञान (राज)।

'सूरि पुं [सूरि] पूर्वाचार्य, प्राचीन आचार्य  
(जीव १)। 'हर देखो 'धर' (पउम ११८,

१२१)। 'णुपुव्वी स्त्री [नुपूर्वा] क्रम,  
परिपाटी (भग; विपा-१, १; औप; महा)।

'णह देखो 'ण्ह (हे १, ६७; पड)।

'फग्गुणी देखो 'फग्गुणी (सम ७; इक)।

'भद्वयया देखो 'भद्वयया (सम ७)।

'साडा स्त्री [पाडा] नक्षत्र-विशेष (सम  
६)।

पुव्वंग पुंन [पूर्वाङ्ग] १ समय-परिमाण-  
विशेष, चौरासी लाख वर्ष (ठा २, ४; इक)।

२ पक्ष के पहले दिन का नाम, प्रतिपत् (सुज  
१०, १४)।

पुव्वंग वि [दे] मुरिडत (पड)।

पुव्वया स्त्री [पूर्वा] पूर्व दिशा (कुमा)।

पुव्वयाड वि [दे] पीन, मांसल, पृष्ट (दे ६,  
५२)।

पुव्वामेव अ [पूर्वमेव] पहले ही (कस)।

पुव्वायईणय न [पूर्वायकीर्णक] नगर-विशेष  
(इक)।

पुव्वि वि [पूर्विन्] पूर्व-शास्त्र का जानकार  
(विपा १, १; राज)।

पुव्वि, क्रि वि [पूर्वम्] पहिले, पूर्व में

पुव्वि (सण; उवा; सुर १, १६४; ४,  
१११; औप)। 'संथव पुं [संस्तव] पूर्व

में की जाती श्रवा, जैन मुनि की भिन्ना का  
एक दोष, भिन्ना-प्राति के पहले दायक की

स्तुति करना (ठा ३, ४)।

पुव्विम पुंज्ञी [पूर्वत्व] पहिलापन, प्रथमता  
(पड)।

पुव्विह वि [पूर्व, पूर्वीय] पहले का, पूर्व  
का; 'पुव्विल्लसमं करणं' (चेइय ८८६);

'पुव्विल्लए किंचिवि द्ढुकम्म' (निसा ४; सुपा  
३४६; सण)।

पुव्वुत्त वि [पूर्वोक्त] पहले कहा हुआ, पूर्व  
में उक्त (सुर २, २४८)।

पुव्वुत्तरा स्त्री [पूर्वोत्तरा] ईशान कोण  
(राज)।

पुस सक [प्र + उञ्ज्, मृज्] साफ  
करना, शुद्ध करना, पोंछना। पुसइ (प्राक  
६६; हे ४, १०५; गा ४३३)। क्वक.  
पुसिज्जंत (गा २०६)।  
पुस देखो पुसस (प्राक २६; पाप्र)।

पुस पुं [पौष] मास-विशेष, पौष मास; 'पुसो' (प्राकृ १०)।

पुसिअ वि [प्रोच्छ्रित, मृष्ट] पोंछा हुआ (गडड; से १०, ४२; गा ५४)।

पुसिअ पुं [प्रपत] मृग-विशेष (गा ६२६)।

पुस्स पुं [पुष्य] १ नक्षत्र-विशेष, कृत्तिका से आठवाँ नक्षत्र (प्राकृ २६; प्राप्रः सम ८; १७; ठा २, ३)। २ रेवती नक्षत्र का अधिपति देव (सुज १०, १२)। ३ ऋषि-विशेष (राज)। ४ माणअ, ५ माणअ पुं [मानअ] माणअ, स्तुति-पाठक, भाट-चारण आदि (णाय १, ८—पत्र १३३; टी—पत्र १३६)। देखो पूस = पुष्य।

पुस्सदेवय न [पुष्यदेवत] जैनेतर शास्त्र-विशेष (खंदि १५४)।

पुस्सायण न [पुष्यायण] गोत्र-विशेष (सुज १०, १६)।

पुह } देखो पिह = पृथक् (हे १, १८८)।  
पुह } अभूय वि [भूत] अलग, जो जूटा हुआ हो (अज्फ ६०)।

पुहई } स्त्री [प्रथिवी] १ तृतीय वासुदेव की पुहई } माता का नाम (पउम २०, १८४)।

२ एक नगरी का नाम (पउम २०, १८८)। ३ भगवान् सुपार्शनाय की माता का नाम (सुपा ३६)। ४—देखो पुठवी, पुहवी (कुमा; हे १, ८८; १३१)। ५ धर पुं [धर] राजा (पउम; ८५, ४)। ६ नाह पुं [नाथ] राजा (सुपा १२२)। ७ पहु पुं [प्रभु] राजा (उप ७२८ टी)। ८ पाल पुं [पाल] राजा (सुर-१; २४३)। ९ राय पुं [राज] विक्रम की वारहवीं शताब्दी का शाकम्बरी देश का एक राजा; 'पुहईराएण सयंभरीनरिदेण' (मुण्ण १०६०१)। १० वइ पुं [पति] राजा (सुपा २०१; २४८; ५१६)। ११ वाल देखो पाल (उप ६४८ टी)।

पुहईसर पुं [प्रथिवीश्वर] राजा (सुपा १०७; २४१)।

पुहत्त न [पृथक्त्व] १ भेद, पार्थक्य (अणु)। २ विस्तार (राज)। ३ बहुत्व (भग १, २; ठा १०)। ४ वि. मित्र, अलग; 'अत्यपुहत्तस' (विते १०६६)। ५ वियक्त न [वितर्क]

शुक्ल ध्यान का एक भेद (संत्रोव ५१)। देखो पुहुत्त, पोहत्त।

पुहत्तिय देखो पोहत्तिय (भग)।

पुहय देखो पिह = पृथक्; 'पुहय देवीण' (कुमा)।

पुहवि } देखो पुठवी, पुहई (पि ३८६; आ  
पुहवी } १४; प्राप्रः प्रासू ५; ११३; सम १५१; स १५२)। ६ भगवान् श्रेयांसनाय की दीक्षा-शिविका (विचार १२६)। १० एक छन्द का नाम (पिंग)। ११ चंद पुं [चन्द्र] एक राजा (यति ५०)। १२ पाल पुं [पाल] १ एक राजकुमार (उप ६८६ टी)। २ देखो पुहई-पाल (सिरि ४५)। ३ पुर न [पुर] एक नगर का नाम (उप ८४४)।

पुहवीस पुं [प्रथिवीश] राजा (हे १, ६)।

पुहु वि [प्रथु] विशाल, विस्तीर्ण। स्त्री. ई (प्राकृ २८)।

पुहुत्त न [पृथक्त्व] १ दो से नव तक की संख्या (सम ४४; जी ३०; भग)। २—देखो पुहत्त (ठा १०—पत्र ४७१; ४६५)।

पुहुवी देखो पुहु-ई (हे २, ११३)।

पू देखो पुं। सुअ पुं [शुक] तोता, मर्द पिक-पति (गा ५६३ अ)।

पूअ सक [पूजय] पूजा करना। पूअ (महा)। कर्म. पूअजसि (गडड)। वक्र. पूअंत (सुपा २२४)। कवक. पूअजंत (पउम ३२, ६)। छ. पूअणोअ, पूअअव्व, पूअणिज्ज (नाट—मृच्छ १६५; उवर १६६; श्रौप; णाय १, १ टी; पंचा २, ८; उप ३२० टी)। संक. पूअऊण (महा)।

पूअ न [दे] दधि, दही (दे ६, ५६)।

पूअ पुं [पूग] १ वृक्ष-विशेष, सुपारी का गाछ (गडड)। २ न. फल-विशेष, सुपारी (स ३४५)। देखो पूग। ३ फली, फली स्त्री [फली] सुपारी का पेड़ (पउम ५३, ७६; पण १)।

पूअ न [पूत] तालाब, कुआँ आदि बुढ़वाना, अन्न-दान करना, देव-मन्दिर बनाना आदि जन-समूह के हित का कार्य; 'गरहियाणि इहुपुयाणि' (स ७१३)।

पूअ वि [पूत] १ पवित्र; शुद्ध (णाय १, ५; श्रौप)। २ न. लगातार छः दिनों का

उपवास (संत्रोव ५८)। ३ वि. सूप आदि से साफ—तुप-रहित किया हुआ (णाय १, ७—पत्र ११६)।

पूअ न [पूय] पीव, दुर्गन्ध रक्त, ब्रण से निकला हुआ गन्दा सफेद विगड़ा हुआ दून (पण १, १; णाय ३, ८)।

पूअण न [पूजन्] पूजा, सेवा (कुमा; श्रौप; सुपा ५८४; महा)।

पूअणा स्त्री [पूजना] १ ऊपर देखो (पण २, १; से ७६३; संवोध ६)। २ काम-विभूषा (सूत्र १, ३, ४, १७)।

पूअणा } स्त्री [पूतना] १ दुष्ट व्यन्तरी, डाइन,  
पूअणी } डाकिनी (सूत्र १, ३, ४; १३; पिडभा ४१; सुपा २६; पण १, ४)। २ गाडर, भेड़ी, मेपी (सूत्र १, ३, ४, १३)।

पूअय वि [पूजक] पूजा करनेवाला (सुर १३, १४३)।

पूअर देखो प्रोर = पूतर (आ १४; जी १५)।

पूअल पुं [पूप] अपूप, पूया, खाद्य-विशेष (दे ६, १८)।

पूअलिया स्त्री [पूपिका] ऊपर देखो (पव ४)।

पूआ स्त्री [दे] पिशाच-गृहीता, भूताविष्ट स्त्री (दे ६, ५४)।

पूआ स्त्री [पूजा] पूजन, अर्चा, सेवा (कुमा)। १ भक्त न [भक्त] पूज्य के लिए निष्पादित भोजन (वृह २)। २ मह पुं [मह] पूजोत्सव (कुप्र ८५)। ३ रह पुं [रथ] राक्षस-वंश में उत्पन्न एक राजा का नाम, एक लंका-पति (पउम ५, २५६)। ४ रिह, रुह वि [ई] पूजा-योग्य (सुपा ४६१; अग्नि ११८)।

पूआहिज्ज वि [पूजाहार्य] पूजित-पूजक (ठा ५, ३ टी—पत्र ३४२)।

पूइ वि [पूति] १ दुर्गन्धो, दुर्गन्धवाला (पउम ४४, ५५) उप ७२८ टी; तंडु ४१)। २ अपवित्रता (पंचा १३, ५)। ३ स्त्री. दुर्गन्ध। ४ अपवित्रता (तंडु ३८)। ५ मिस्रा का एक दोष, पूति-कर्म (पिड २६८)। ६ रोग-विशेष, एक नासिका-रोग, नासा-कोय (विते २०८)। ७ पूय, पीव; 'गलंतपूइनिवहं' (महा), 'पूइ-वसवहिरपुन्नं' (सुर १४, ४६), 'जहा सुसी

पूइकएणी (उत्त १, ४) । न वृज-विशेष, एकात्मिक वृज को एक जाति; 'पूई य निव-करण' (पण १—पत्र ३१) । 'कम्म पुंन [कम्मन्] मुनि-भिला का एक दोष, पवित्र वस्तु में अपवित्र वस्तु को मिलाकर दी जाती भिला का ग्रहण (ठा ३, ४ टी; औप; पंचा १३, ५) । 'म वि [मन्] ? दुगन्वी । २ अपवित्र (तंदु ३८) ।

पूइ वि [पूति कुचित, सड़ा हुआ (आचा २, १, ८, ४) । 'पिन्नाग पुंन [पिण्याक] सर्प-खल, सरसों की खली (दत्त ५, २, २२) ।

पूइअ वि [पूयित] ऊपर देखो (राय १=) । पूइआलुग न [दे. पूत्यालुक] जल में होने-वाली वनस्पति-विशेष (आचा २, १, ८—सूत्र ४७) ।

पूइजंत देखो पूअ = पूजय् ।

पूइम वि [पूज्य] पूजा योग्य, सम्माननीय; 'जया य पूइमो होइ पच्छा होइ अपूइमो' (दसत्त १, ४) ।

पूइय वि [पूजित] अर्चित, सेवित (औप; उव) ।

पूइय वि [पूतिक] १ अपवित्र, अशुद्ध, दूषित (पण २, ५, उप पृ २१०) । २ दुगन्वी, दुष्ट गन्धवाला (राया १, ८; तंदु ४१) । ३ पूति नामक भिला-दोष से युक्त (पिंड २६८) ।

पूइय देखो पोइय = (दे); 'बलो गयो पूइया-वण (सुज २, २६; उप) ।

पूअअव्य देखो पूअ = पूजय् ।

पूअरिअ न [दे] कार्य, काम, काज, प्रयोजन (दे ६, ५७) ।

पूग पुं [पूग] १ समूह, संघात (मोह २८) । २ देखो पूअ = पूग (स ७०; ७१) ।

पूगी वी [पूगी] सुपारी का पेड़ । 'फल न [फल] सुपारी, कसैली (रण ५५) ।

पूज देखो पूअ = पूजय् । कर्म, पूजए (उव) । वृह. पूजयंत (विसे २८८८) । कृ. पूज, पूज (पठम ११, ६७; सुपा १८०; सुर १, १७; उवर १६६; उव; उप ५६८) ।

पूजग देखो पूअय (पंचा ४, ४४) ।

पूजण देखो पूअण (पंचा ६, ३८) ।

पूजा देखो पूआ = पूजा (उप १०१६) ।

पूजिय देखो पूइय = पूजित (औप) ।

पूण पुं [दे] हस्ती, हाथी (दे ६, ५६) ।

पूणआ } वी [दे] पूणी, पूनी, वई की  
पूणी } पहल (दे ६, ७८; ६, ५६) ।

पूप देखो पूअल (पिंड ५५७) ।

पूयइ पुं [पूपकिन] हलवाई (एदि १६४) ।

पूयंत देखो पूअ = पूजय् ।

पूयली वी [दे] रोटी (आचा २, १, ८, ६) ।

पूयावणा वी [पूजना] पूजा कराना (संबोध १५) ।

पूर सक [पूरय्] पूति करना, भरना । पुरड, पूरण (हे ४, १६६, औप; भग; महा; पि ४६२) । वृह. पूरंत, पूरयंत (कुमा, कप्प; औप) । कवक. मुजंत, पुजमाण, पूरजंत, पूरंत, पूरमाण (उप पृ १५४; सुपा ६८; उप १३६ टी; भवि; गा १६६; से ११, ६३; ६, ६७) । संक पूरिआ (भग), पूरि (अप). (पिग) । हेक. पूरिइत्तए (पि ५७८) । कृ. पूरिअव्य (से ११, ४४) ।

पूर पुं [पूर] १ जल-समूह, जल-प्रवाह, जल-धारा (कुमा) । २ चाय-विशेष; 'कपूरपूरसहिए तंबोले' (सुर २, ६०) । ३ वि. पूरा, पूरा; 'पूराणि य से समं पणइमणोरहेहि अज्जेव सत्त राइदियाई, भविस्सइ य सुए सामिणी विजासिटी' (स ३६३) ।

पूरइत्तअ (शौ) वि [पूरयित्] पूरा करनेवाला (मा ४३) ।

पूरंतिया वी [पूरयन्तिका] राजा को एक परिषत्—परिवार (राज) ।

पूरग वि [पूरक] पूति करनेवाला (कप्प; औप; रण ७७) ।

पूरण न [पूरण] शूष, सूप, सिरकी का बना एक पात्र जिससे अन्न पछोरा जाता है (दे ६, ५६) ।

पूरण न [पूरण] १ पूति, 'समत्सापूरण' (सिरि ८६८) । २ पालन (आइ ५) । ३ पुं. यदुवंश के राजा अन्वकवृष्णि का एक पुत्र (अंत ३) । ४ एक गृह-पति का नाम (उवा) । ५ वि. पूति करनेवाला (राज) ।

पूरमाण देखो पूर = पूरय् ।

पूरय देखो पूरग; 'वत्तीअं किर कवला आहारो कुच्चिपूरओ भणिमो' (पिंड ६४२) ।

पूरयंत } देखो पूर = पूरय् ।  
पूरिअव्य }

पूरिगा वी [पूरिका] मोटा कपड़ा (राज) ।

पूरिम वि [पूरिम] पूरने से—भरने से होनेवाला (राया १, १३, पण २, ५; औप) ।

पूरिमा वी [पूरिमा] गाव्वार ग्राम को एक भूच्छना (ठा ७—पत्र ३६३) ।

पूरिय वि [पूरित] भरा हुआ (गडह; सण; भवि) ।

पूरी वी [पूरी] तन्तुवाय का एक उपकरण (दे ६ ५६) ।

पूरंत देखो पूर = पूरय् ।

पूरुटी वी [दे] अक्कर, कतवार, कूड़ा (दे ६, ५७) ।

पूळ पुंन [पूळ] पूला, घास की अंटिया (उप ३२० टी; कुप्र २१५) ।

पूळ } देखो पूअल (कस; दे ६, ११७;  
पूळल } निव्व १) ।

पूळलिआ } देखो पूअलिया (वृह १; निव्व  
पूळिगा } १६) ।

पूस अक [पुय्] पुष्ट होना । पूसइ (हे ४, २३६; प्राक ६८) ।

पूस देखो पूसस = पूष्य (राया १, ८; हे १, ४३) । 'गिरि पुं [गिरि] एक जैन मुनि (कप्प) । 'फली वी [फली] वल्ली-विशेष (पण १) । 'माण, 'माणग पुं [माण, 'मानव] माणव, मङ्गल-पाठक;—वद्धमाण-पूसमाणघंठियणोहि' (कप्प; औप) । 'माणग पुं [मानक] ज्योतिर्वेत्ता-विशेष, ग्रहाधि-ष्टायक देव-विशेष (ठा २, ३) । 'माणय देखो 'माण (औप) । 'मित्त पुं [मित्त] १ स्वनाम-प्रसिद्ध जैन मुनि-त्रय—१ ध्व-पुष्यमित्त, २ वन्नपुष्यमित्त, ३ दुबलिका-पुष्यमित्त, जो आयं रसितसूरि के शिष्य थे (विसे २५१०; २२८६) । २ एक राजा (विचार ४६३) । 'मित्तिय न [मित्रीय] एक जैन मुनि-कुल (कप्प) ।

पूस पुं [दे] १ राजा सातवाहन (दे ६, ८०) । २ शुक, तोता (दे ६, ८०; गा २६३; वज्र १३४; पात्र) ।

पूस पुं [पूघन] १ सूयं, रवि (हे ३, ५६) । २ मणि-विशेष (पञ्च ६, ३६) ।

पूसा स्त्री [पुष्या] व्यक्ति-वाचक नाम, कुण्ड-कोलिक श्रावक की पत्नी (उवा) ।

पूसाण देखो पूस = पूषन् (हे ३, ५६) ।

पूह पुं [अपोह] विचार, सीमांसा; 'ईहापूह-मण्णगवेसणं करेमाणस्स' (श्रौप; पि १४२; २८६) । देखो अपोह = अपोह ।

पूथुम (पै) देखो पृथमः 'पूथुमत्तिनेहो' (प्राक १२४) ।

प्रेअ पुं [प्रेत] १ व्यन्तर-भेद, एक देव-जाति (सुपा ४६१; ४६२; जय २६) । २ मृतक (पञ्च ५, ६०) । ३ कम्म न [कम्मन्] अन्वेषि क्रिया, मृत का दाहादि कार्य (पञ्च २३, २४) । ४ करणिज्ज न [करणीय] अन्वेषि क्रिया (पञ्च ७५, १) । ५ काइय वि [कायिक] प्रेत-योनि में उत्पन्न, व्यन्तर-विशेष (भग ३, ७) । ६ देवयकाइय वि [देवताकायिक] प्रेत-देवता का, प्रेत-सम्बन्धी (भग ३, ७) । ७ नाह पुं [नाय] यमराज, जम (स ३१६) । ८ भूमि, भूमी स्त्री [भूमि, मी] श्मशान (सुपा २६५) । ९ लोय पुं [लोक] श्मशान (पञ्च ८६, ४३) । १० वइ पुं [वति] यम (उप ७२८ टी) । ११ वण न [वन] श्मशान (पात्र; सुर १६, २०४; वज्र २; सुपा ५१२) । १२ हिच पुं [धिप] यम, जमराज (पात्र) ।

प्रेअ वि [प्रेयस] अतिशय प्रिय । स्त्री. ३ सी (सम्मत १७५) ।

प्रेअ } देखो पा = पा ।  
प्रेअन्व }

प्रेआ स्त्री [पिया] यवाण, पीने की वस्तु-विशेष (हे १, २४८) ।

प्रेआल न [दे] १ प्रमाण (दे ६, ५७; विसे १६६ टी; खदि; उव) । २ विचार (विसे १३६१) । ३ सार, रहस्य (ठा ४, ४ टी—पत्र २८३; उप पृ २०७) । ४ प्रवान, मुख्य (उवा) ।

प्रेआलणा स्त्री [दे] प्रमाण-करण, 'पञ्जव-पेयालणा पिजो' (पिड ६५) ।

प्रेआलुय वि [दे] विचारित (विसे १४८२) ।

प्रेइअ वि [पैतृक] १ पिता से आया हुआ, पितृ-क्रम-प्राप्त; 'पेइओ वम्मो' (पञ्च ८२, ३३; सिरि ३४८; स ५६६) । २ न. स्त्री के पिता का घर, पीहर, नैहर, मैका; 'ता जा कुले कलंको नो पयइइ ताव पेइए एयं पेवेमि', 'विमलेण तन्नो भणियं गच्छ पिए पेइयमियाणि' (सुपा ६००) ।

प्रेईहर न [पितृगृह, पैतृकगृह] पीहर, स्त्री के पिता का घर; 'इय चित्तिज्जण सिग्घं वणसिरिपेईहरम्मि संचलित्तो' (सुपा ६०३) ।

प्रेऊस न [पीयूष] अमृत, सुधा (हे १, १०५; गा ६५; कप्पू) । ३ सण पुं [शान] देव, सुर (कुमा) ।

प्रेस्विअ वि [प्रेक्षित] कम्पित (कप्पू) ।

प्रेखोल घक [प्रेङ्गोलय] झूलना, हिलना । वक्र. पेखोलमाण (साया १, १—पत्र ३१) ।

प्रेड देखो पिंड = पिएड (हे १, ८५; प्राक ५; प्राप्र; कुमा) ।

प्रेड न [दे] १ खण्ड, टुकड़ा । २ वलय (दे ६, ८१) ।

प्रेडधव पुं [दे] खड्ग, तलवार (दे ६, ५६) ।

प्रेडवाल वि [दे] देखो पेंडलिअ (दे ६, ५४) ।

प्रेडय पुं [दे] १ तरुण, युवा । २ पण्ड, नपुंसक (दे ६, ५३) ।

प्रेडल पुं [दे] रस (दे ६, ५८) ।

प्रेडलिअ वि [दे] पिएडोक्त, पिएडाकार किया हुआ (दे ६, ५४) ।

प्रेडव सक [प्र+स्थापय] १ रखना, स्थापन करना । २ प्रस्थान कराना । पेंडवइ (हे ४, ३७) ।

प्रेडविर वि [प्रस्थापयित्] प्रस्थापन करने-वाला (कुमा) ।

प्रेडार पुं [दे] १ गोप, गो-पाल, ग्वाला । २ महिपी-पाल (दे ६, ५८) ।

प्रेडोली स्त्री [दे] क्रीड़ा (दे ६, ५६) ।  
प्रेडा स्त्री [दे] कलुष सुरा, पंकवाली मदिरा (दे ६, ५०) ।  
प्रेत देखो पा = पा ।

पेक्ख सक [प्र + ईक्ष्] देखना, श्रवणलोकन करना । पेक्खइ, पेक्खए (सण; पिग) । वक्र. पेक्खंत (पि ३६७) । कवक. पेक्खिज्जंत (से १५, ६३) । संक. पेक्खिअ, पेक्खिऊण (अभि ४२; काप्र १५८) । क. पेक्खणिज्ज (नाट—वेणी ७३) ।

पेक्खअ } वि [प्रेक्षक] देखनेवाला, निरीक्षक,  
पेक्खग } द्रष्टा (सुर ७, ८०; स ३७६; महा) ।

पेक्खग न [प्रेक्षण] निरीक्षण, श्रवणलोकन (सुपा १६६; अभि ५३) ।

पेक्खणग } न [प्रेक्षणक] खेल, तमाशा,  
पेक्खणय } नाटक (सुर ७, १८२; कुप्र ३०) ।

पेक्खणा स्त्री [प्रेक्षणा] निरीक्षण, श्रवणलोकन (श्रौष ३) ।

पेक्खा स्त्री [प्रेक्षा] ऊपर देखो (पञ्च ७२; २६) । देखो पेच्छा ।

पेक्खिय देखो पेच्छिअ (राज) ।  
पेक्खिल (अप) वि [प्रेक्षित] दृष्ट (रंभा) ।

पेच् } अ [प्रेत्य] परलोक, आगामी जन्म  
पेच्चा } (भग; श्रौप); 'संवोही खलु पेच्च दुल्लहा' (वे ७३) । २ भव पुं [भव] आगामी जन्म, परलोक (श्रौप) । ३ भाविअ वि [भायिक] जन्मांतर-संबन्धी (पएह २, २) ।

पेच्चा देखो पिअ = पा ।  
पेच्छ सक [दृश्, प्र + ईक्ष्] देखना ।

पेच्छइ, पेच्छए (हे ४, १८१, उव; महा; पि ४५७) । भवि. पेच्छिहिस्सि (पि ५२५) । वक्र. पेच्छंत (गा ३७३; महा) । संक. पेच्छिऊण (पि ५८५) । हेक. पेच्छिउं, पेच्छित्तए (उप ७२८ टी; श्रौप) । क. पेच्छणिज्ज, पेच्छिअन्व (गा ६६; श्रौप; पएह १, ४; से ३, ३३) ।

पेच्छ वि [प्रेक्ष] द्रष्टा, दराक; 'अपरमत्थपेच्छो' (स ७१५) ।

पेच्छग देखो पेक्खग (भास ४७; घर्मसं ७४३) ।

पेच्छण देखो पेक्खण (सुपा ३७) ।  
पेच्छणग } देखो पेक्खणग (पंचा ६, ११;  
पेच्छणय } महा) ।

पेच्छय वि [प्रेक्षक] द्रष्टा, निरीक्षक (पञ्च ८६, ७१; स ३६१; गा ४६८) ।



पेच्छय वि [दे] जो देखे उसी को चाहनेवाला, दृष्ट-मान का अभिलाषी (दे ६, ५८) ।

पेच्छा स्त्री [प्रेक्षा] प्रेक्षणक, तमाशा, खेल, नाटक; 'पेच्छाच्छरौ सिरणविलोभ्रणारण जहा सुचोक्खोवि न किच्चिदेव' (उपपं ३७; सुर १३, ३७; श्रौप) । देखो पेच्छा । °घर न [°गृह] देखो °हर (ठा ४, २) । °मंडय पुं [°मण्डप] नाट्य-गृह, खेल आदि में प्रेक्षकों के बैठने का स्थान (पव २६६) । °हर न [°गृह] नाटक-गृह, खेल-तमाशा का स्थान (पठम ८०, ५) ।

पेच्छि वि [प्रेक्षिन्] प्रेक्षक, द्रष्टा (चैश्य १०६; गा २१४) ।

पेच्छिअ वि [प्रेक्षित] १ निरोक्षित, अवलोकित (कुमा) । २ न. निरीक्षण, अवलोकन (सुर १२, १८३; गा २२५) ।

पेच्छिर वि [प्रेक्षिन्] निरीक्षक, द्रष्टा (गा १७४; ३७१) ।

पेज्ज देखो पा = पा ।

पेज्ज पुंन [प्रेमन्] प्रेम अनुराग (सूत्र २, ५, २२; आचा; भग; ठा १; चैश्य ६३४) ।

°दसि वि [°दसिन्] अनुरागी (आचा) ।

पेज्ज वि [प्रेयस्] अत्यन्त प्रिय (श्रौप) ।

पेज्ज वि [प्रेय्य] पूज्य, पूजनीय (राज) ।

पेज्ज देखो पेर = प्र + ईर्य् ।

पेज्जल न [दे] प्रमाण (दे ६, ५७) ।

पेज्जलिअ वि [दे] संघटित (पड) ।

पेज्जा देखो पेया (श्रौप १४६; हे १, २४८) ।

मेज्जाल वि [दे] विपुल, विराल (दे ६, ७) ।

पेट } न [दे] पेट, उदर (पिग; पव १) ।

पेट्ट }

पेट्ट देखो पिट्ट = पिट्ट (संक्षि ३; प्राकृ ५; प्राप्र) ।

पेट्ट देखो पेट्टय; 'नडपेडनिहा' (संशोध १८) ।

पेट्टइअ पुं [दे] घान्य आदि वेचनेवाला वणिक् (दे ६, ५६) ।

पेट्टक } न [पेटक] समूह, वृथ; 'नडपेडक-पेट्टय } संनिहा जाण' (संशोध १५; सुपा ५४६; सिरि १६३; महा) ।

पेट्टा स्त्री [पेटा] १ मञ्जूपा, पेटी (दे ५, ३८; महा) । २ पेटाकार चतुष्कोण गृह-भक्ति में निक्षार्थ-भ्रमण (उत्त ३०, १६) ।

पेट्टाल पुं [दे. पेटाल] बड़ी मञ्जूपा, बड़ी पेटी (मुद्रा ११०) ।

पेट्टावइ पुं [पेटकपति] वृथ का नायक (सुपा ५४६) ।

पेट्टिआ स्त्री [पेटिका] मञ्जूपा (मुद्रा २४०) ।

पेट्टु स्त्री पुं [दे] महिष, भैंसा (दे ६, ८०) ।

पेट्टु स्त्री [दे] १ भित्ति, भीत । २ द्वार, दरवाजा । ३ महिषी, भैंस (दे ६, ८०) ।

पेट्ट देखो पीठ = पीठ (हे १, १०६; कुमा); 'काञ्जए पेट्टं टविया तव्य एसा पडिमा' (कुप्र ११७) ।

पेट्टाल वि [दे] १ विपुल (दे ६, ७; गजड) । २ वतुल, गोलाकार (दे ६, ७; गजड; पात्र) ।

पेट्टाल वि [पीठवन्] पीठ-युक्त (गजड) ।

पेट्टाल पुं [पेटाल] १ भारत वर्ष का आठवाँ भावी जिनदेव, 'पेटालं अट्टमयं आणंदिजियं नमंसामि' (पव ४६) । २ ग्यारह रूद्र पुरुषों में दसवाँ (विचार ४७३) । ३ एक ग्राम, जहाँ भगवान् महावीर का विचरण हुआ था; 'पेटालंगाममागओ भयवं' (आवम) । ४ न. एक उद्यान; 'तओ सामी दडभूमि गओ, तीसे वाहि पेटालं नाम उज्जाणं' (आव १) । ५ पुत्र पुं [पुत्र] १ भारतवर्ष का आठवाँ भावी जिन-देव; 'उदए पेटालपुत्ते य' (सम १५३) । २ भगवान् पाश्चात्य के संतान में उत्पन्न एक जैन मुनि; 'अहे एं उदए पेटालपुत्ते भगवं पासावच्चिजे निवठे मेयज्जे गोत्तेण' (सूत्र २, ७, ५; ८; ९) । ३ भगवान् महावीर के पास दोसा लेकर अनुत्तर विमान में उत्पन्न एक जैन मुनि (अनु २) ।

पेट्टिया देखो पीडिआ; 'चत्तारि मणिपीडि-याओ' (ठा ४, २—पत्र २३०) । २ ग्रन्थ की भूमिका, प्रस्तावना (वसु) ।

पेट्टी देखो पीठी (जीव ३) ।

पेणी स्त्री [प्रेणी] हरिणी का एक भेद (पएह १, ४—पत्र ६८) ।

पेट्टेड वि [दे] सुम-दण्डक, जुए में जो हार गया हो वह, जिसका दाव चला गया हो वह (मृच्छ ४६) ।

पेम पुंन [प्रेमन्] प्रेम, अनुराग, प्रीति, स्नेह (उवा; श्रौप; सं ५; सुपा २०४; रयण ४२) ।

पेमालुअ वि [प्रेमिन्] प्रेमी, अनुरागी (उप ६८६ टी) ।

पेम्म देखो पेम (हे २, ६८; ३, २५; कुमा; गा १२६; प्राप् ११६) ।

पेम्मा स्त्री [प्रेमा] छन्द-विशेष (पिग) ।

पेया स्त्री [पिया] वाद्य-विशेष, बड़ी काहला (राय ४५) ।

पेर सक [प्र + ईर्य्] १ पठाना, भोजना, प्रेषण करना । २ घक्का लगाना, आघात करना । ३ आदेश करना । ४ किसी कार्य में जोड़ना—लगाना । ५ पूर्वपक्ष करना, प्ररन करना, सिद्धान्त का विरोध करना । ६ गिराना । पेरइ (धर्मसं ५६०; भवि) । वज्ज. पेरंत (कुप्र ७०; पिग) । क्वक्क. पेरिजंत (सुपा २५१; महा) । क्क. पेज्ज (राज) ।

पेरंत देखो पर्जंत (हे १, ५८; ६३; प्राप्र; श्रौप; गजड) । °चक्कवाल न [°चक्रवाल] बाह्य परिधि, बाहर का घेराव (पएह १, ३) । °घच्च न [°वर्चस्] मण्डप, तुणादि-निर्मित गृह (राज) ।

पेरग वि [प्रेरक] प्रेरणा करनेवाला, पूर्वपक्षी (धर्मसं ५८७) ।

पेरण न [दे] १ ऊर्ध्व स्थान (दे ६, ५६) । २ खेल, तमाशा (स ७२३; ७२५) ।

पेरण न [प्रेरण] प्रेरणा (कुप्र ७०) ।

पेरणा स्त्री [प्रेरणा] ऊपर देखो (सम्मत् १५७) ।

पेरिअ वि [प्रेरित] जिसको प्रेरणा की गई हो वह (दे ८, १२; भवि) ।

पेरिज्ज न [दे] साहाय्य, सहायता, मदद (दे ६, ५८) ।

पेरिज्जंत देखो पेर = प्र + ईर्य् ।

पेरुहि वि [दे] पिएडीकृत, पिएडाकार किया (दे ६, ५४) ।

पेलव वि [पेलव] १ कोमल, सुकुमार, मृदु (पात्र; सं २, २७; श्रमि २६; श्रौप) । २ पतला, कृश । ३ सूक्ष्म, लघु (णया १, १—पत्र २५; हे १, २३८) ।

पेलु स्त्री [पेलु] पूर्णी, रई की पहल; 'कंतामि ताव पेळु' (पिडभा ३५) । °करण न [°करण] पूर्णी—पूनी बनाने का उपकरण, शलाका आदि (विसे ३३०५) ।

पेह सक [क्षिप्] फँकना । पेहइ (हे ४, १४३) । कर्म, पेह्लिजइ (उव) । वक्र. पेह्लंत (कुमा) । संक. पेह्लिऊण (महा) ।

पेह देखो पेर = प्र + ईर्य् । पेह्लइ (प्राकृ ६०) । कवक. पेह्लिजंत (से ६, २५) । संक. पेह्लि (अप), पेह्लिअ (पिण) । कृ. पेह्लेयव्व (ओयमा १८ टी) ।

पेह सक [पीडय्] पीलना, दवाना, पीडना । पेह्लेसि, पेह्लिसि (स ५७४ टि) ।

पेह सक [पूरय्] पुरना, भरना । कवक. पेह्लिजंत (से ६, २५) ।

पेह पुंन [दे] वचा, शिशु, बालक (उप पेह्लग १२१६); 'वीयन्मि पेह्लगाई' (उप २२० टी) ।

पेह्लग देखो पेरग (निच १६) ।

पेह्लण देखो पेरण (परह १, ३; गउड) ।

पेह्लण न [क्षेपण] फँकना (धर्म २) ।

पेह्लय पुं [दे] देखो पेह्ल = (दे) (विपा १, २—पत्र ३६); 'सपेह्लियं सियालि' (मुख २, ३३) ।

पेह्लय देखो पेरग (वृह १) ।

पेह्लय पुं [पेह्लक] भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर विमान में उत्पन्न एक जैन मुनि (अनु २) ।

पेह्लव्व देखो पेर । पेह्लवइ, पेह्लावइ (प्राकृ पेह्लाव ६०) ।

पेह्लिअ वि [दे. पीडित] पीडित (दे ६, ५७); 'वलियदाइयपेह्लिओ' (महा) ।

पेह्लिअ देखो पेरिअ (गा २२१; विपा १, १) ।

पेह्लेयव्व देखो पेह्ल = प्र + ईर्य् ।

पेव्वे अ. आमन्त्रण-सूचक अव्यय (पड्) ।

पेस सक [प्र + एपय्] भेजना, पठाना ।

पेसइ, पेसेइ (भवि; महा) । वक्र. पेसअंत (पि ४६०; रंभा) । संक. पेसिअ, पेसिउं (मा ४०; महा) । कृ. पेसइयव्व, पेसिअव्व; पेसेयव्व (सुपा ३००; २७८; ६३०; उप १३६ टी) ।

पेस देखो पीस । वक्र. पेसयंत (राज) ।

पेस पुंन [प्रेपय्] १ कर्मकर, नौकर, दास, चाकर (सम १६; सूत्र १, २, २, ३; उत्रा) । २ वि. भेजने योग्य (हे २, ६२) ।

पेस पुं [दे. पेश] १ सिन्ध देश में होनेवाली एक पशु-जाति (आचा २, ५, १, ८) ।

पेस वि [दे. पैश] पेश नामक जानवर के चमड़े का बना हुआ (वक्र) (आचा २, ५, १, ८) ।

पेसण न [दे] कार्य, काज, प्रयोजन (दे ६, ५७; भवि; एयाया १, ७—पत्र ११७; पउम १०३, २६) ।

पेसण न [प्रेपण] १ पठाना, भेजना । २ नियोजन, व्यापारण (कुमा; गउड) । ३ आज्ञा, आदेश (से ३, ५४) ।

पेसणआरी } स्त्री [दे] दूती; दूत-कर्म करने-  
पेसणआली } वाली स्त्री (दे ६, ५६; पड्) ।

पेसणा स्त्री [प्रेपण] पीसना, पेपण; 'सिलाए जत्रगोहमपेसणाए हेऊए' (उप ५६७ टी) ।

पेसल वि [पेशल] १ सुन्दर, मनोत्र (आचा; गउड) । २ मधुर, मज्जु (पात्र) । ३ कोमल (गउड) ।

पेसल } न [दे] सिन्ध देश के पेश नामक  
पेसलेस } पशु के चर्म के सूक्ष्म पक्ष से  
निष्पन्न वक्र, 'पेसाणि वा पेसलाणि वा'  
(२ आचा २, ५, १—सूत्र १४५), 'पेसाणि  
वा पेसलेसाणि वा' (३ आचा २, ५, १, ८;  
(राज) ।

पेसव सक [प्र + एपय्] भेजवाना । कृ.  
पेसवेयव्व (उप १३६ टी) ।

पेसवण न [प्रेपण] भेजवाना, दूसरे के द्वारा  
प्रेपण (उवा; पडि) ।

पेसविअ वि [प्रेपित] भेजवाया हुआ, प्रस्था-  
पित (पात्र; उप ५८) ।

पेसाय वि [पैशाच] पिशाच-संबन्धी (वृह  
२) ।

पेसि स्त्री [पेशि] देखो पेसी (सुपा ४८७) ।

पेसिअ वि [प्रेपित] १ भेजा हुआ, प्रहित  
(गा ११२; भवि; काल) । २ प्रेषण (पउम  
६, ३५) ।

पेसिआ स्त्री [पेशिका] खण्ड, टुकड़ा; 'अव-  
पेसिया ति वा अवाडगपेसिया ति वा' (अनु  
६; आचा २, ७, २, ७; ८; ९) ।

पेसिआर पुं [प्रेपितकार] नौकर, श्रुत्य,  
कर्मकर (पउम ६, ३५) ।

पेसिदवंत (शौ) वि [प्रेपितवत्] जिसने  
भेजा हो वह (पि ५६६) ।

पेसी स्त्री [पेशी] मांस-खण्ड, मांस-पिएड  
(तंडु ७) । देखो पेसिआ ।

पेसुण्ण } न [पैसुन्य] परोक्ष में दोष-  
पेसुन्न } कीर्तन, चुगली (श्रौप; सूत्र १,  
१६, २; एयाया १, १; भग; सुपा ४२१) ।

पेसेयव्व देखो पेस = प्र + एपय् ।

पेसिदवंत देखो पेसिदवंत (पि ५६६) ।

पेह सक [प्र + ईह्] १ देखना, निरीक्षण  
करना, ध्यान-पूर्वक देखना । २ चिन्तन करना ।  
पेहइ, पेहए (पि ८७; उव), पेहंति (कुप्र  
१६२) । भवि. पेहिस्तामि (पि ५३०) । वक्र.  
पेहंत, पेहमाण (उप १५४; चेइय २५०;  
पि ३२३) । संक. पेहाए, पेहिया (कस;  
पि ३२३) ।

पेह सक [प्र + ईह्] १ इच्छा करना,  
चाहना । २ प्रार्थना करना । पेहेइ (दस ६,  
४, २) ।

पेहण न [प्रेक्षण] निरीक्षण (पंचा ४, ११) ।

पेहा स्त्री [प्रेक्षण] १ निरीक्षण (उव; सम  
३२) । २ कायोत्सर्ग का एक दोष, कायोत्सर्ग  
में बन्दर की तरह ओठ-पुट को हिलाते रहना  
(पव ५) । ३ पर्यालोचन, चिन्तन (आव ४) ।  
४ बुद्धि, मति (उत्त १, २७) ।

पेहाविय वि [प्रेक्षित] दर्शित, दिखलाया  
हुआ (उप ५ ३८८) ।

पेहि वि [प्रेक्षिन्] निरीक्षक (आचा; उव) ।  
स्त्री. णी (पि ३२३) ।

पेहिय वि [प्रेक्षित] निरीक्षित (महा) ।

पेहुण न [दे] १ पिच्छ, पंख (दे ६, ५८;  
पात्र; गा १७३; ७६५; वजा ४४; भत्त  
१४१; गउड) । २ मयूर-पिच्छ, मयूर-  
पंख, शिखण्ड (परह १, १; २, ५; जं १;  
एयाया १, ३) देखो पिहुण ।

पोअ सक [प्र + वे] पिराना, झूथना ।  
पोअंति (गच्छ ३, १८; सूत्रनि ७४) । वक्र.  
पोयमाण (स ५१२) । संक. पोइऊण  
(धर्मवि ६७) ।

पोअ वि [प्रोत] पिराया हुआ (दे १, ७६) ।

पोअ पुं [पोत] १ जहाज, प्रवहण, नौका  
(पात्र; सुपा ८८; ३६६) । २ बालक, शिशु,  
बच्चा (दे ६, ८१; पात्र; सुपा ३६६) । ३  
न. वक्र, कपड़ा (ठा ३, १—पत्र ११४) ।

पोअ पुं [दे] १ धव वृक्ष, धाय, वीं का पेड़ ।  
२ छोटा साँप (दे ६, ८२) ।

पोअइआ स्त्री [दे] निद्राकारी लता, लता-  
विशेष (दे ६, ६३; पात्र) ।

पोअंड वि [दे] १ भय-रहित, निडर । २  
परण्ड, नामदं (दे ६, ६१) ।

पोअंत पुं [दे] शपथ, सौगन (दे ६, ६२) ।  
पोअण न [प्रवयन, प्रोतन] पिरोना; पुम्फन,  
बूथना (प्रावम) ।

पोअणपुर न [पोतनपुर] नगर-विशेष (सुपा  
५०६; भवि) ।

पोअणा स्त्री [प्रवयना, प्रोतना] पिरोना  
(उज ३५६) ।

पोअय वि [पोतज] पोत से उत्पन्न होनेवाला  
प्राणी—हस्ती आदि (ठा ३, १) ।

पोअय पुं [पोतक] देखो पोअ = पोत (उवा;  
श्रीप) ।

पोअलय पुं [दे] १ आरिवन मास का एक  
उत्सव; जिसमें पत्नी के हाथ से लेकर पति  
अपूप को खाता है । २ एक प्रकार का  
अपूप—खाद्य-विशेष, पूआ । ३ बाल वसन्त  
(दे ६, ८१) ।

पोआई स्त्री [पोताकी] १ शकुनि को उत्पन्न  
करनेवाली विद्या-विशेष २ शकुनिका, पति-  
विशेष (जिते २४५३) ।

पोआउय वि [पोतायुज; पोतज] देखो  
पोअय (परम १०२, ६७) ।

पोआय पुं [दे] ग्राम-प्रधान, गाँव का मुखिया  
(दे ६, ६०) ।

पोआल पुं [दे] वृषभ, बलीवर्द (दे ६, ६२) ।  
पोआल [दे. पोतक] बच्चा; शिशु, बालक  
(श्रीप ४४७) ।

पोइय पुं [दे] १ हलवाई, मिठाई बेचनेवाला ।  
२ लद्योत (दे ६, ६३) । ३ निमग्न, डूबा  
हुआ (श्रीप १३६) । ४ स्मृति (वृह १) ।

पोइअ वि [प्रोत] पिरोया हुआ (दे ७, ४४;  
उप पृ १०६; पात्र) ।

पोइअइय देखो पोइअ = प्रोत (श्रीप ५३६  
टी) ।

पोइआ स्त्री [दे] निद्राकारी लता, बली-  
पोई } विशेष (दे ६, ६३; परण १—  
पत्र ३४) ।

पोउआ स्त्री [दे] करीप—सूता गोबर (गोईठा)  
का अग्नि (दे ६, ६१) ।

पोंग पुं [दे] पाक, पकना (स १८०) ।

पोंगिइ वि [दे] पका हुआ; परिपक्व, परि-  
पाक-युक्त; कच्छी भाषा में 'पोंगल';

'अन्नेवि सइमहियलनिसीय-  
सुप्पन्निक्किणियपोंगिइला ।

मल्लिणजरकप्पडोच्छइय-  
विग्गहा कहवि हिंडंति ॥'  
(स १८०) ।

पोंड न [दे] फूल, पुष्प; 'एगं सालियपोंडं  
वडो आमेलगो होइ' (उत्तनि ३) ।

पोंड देखो पुंड । 'वड्डण न [वर्धन] नगर-  
विशेष (महा) । 'वड्डणिया स्त्री [वर्धनिका]

जैन मुनि-गण की एक शाखा (कम्प) ।

पोंड } पुं [दे] सूय का अविपत्ति (दे ६,  
पोंडय } ६०) । २ फल (परह १, ४—पत्र  
७८) । ३ अविपत्ति अत्रत्यावाला कमल  
(जिते १४२५) । ४ कपास का सूता; 'द्वं  
तु पोंडयावी भावे सुत्तमिह सूयगं नाए'  
(सूअनि ३) ।

पोंडरिगिणी देखो पुंडरिगिणी (ठा २, ३) ।

पोंडरिय देखो पुंडरीअ = पुण्डरीक (स  
४३६) ।

पोंडरी स्त्री [पौण्ड्री, पुण्डरीका] जम्बूद्वीप के  
मेरु के उत्तर त्वक पर रहनेवाली एक  
दिक्कुमारी देवी (ठा ८) ।

पोंडरीअ देखो पुंडरीअ = पुण्डरीक (श्रीप,  
णाय १, ५; १६; सम ३३; देवेन्द्र ३१८;  
सूअनि १४६) ।

पोंडरीअ } न [पौण्डरीक] १ गरिणत-  
पोंडरीग } विशेष, रज्जु-नणित (सूअनि  
१५४) । २ देखो पुंडरीअ = पौण्डरीक (सूअ  
२, १, १; सूअनि १४६; १५१) ।

पोक सक [व्या + क्, पत् + क्त] पुका-  
रना, आह्वान करना । पोकरइ (हे ४;  
७६) ।

पोक वि [दे] आगे स्थूल और उन्नत तथा  
बीच में निम्न (नासिका); 'पोकनसे' (उत्त  
१२, ६) ।

पोकण पुं [पोकण] १ अनायं देश-विशेष ।  
२ उस देश में बसनेवाली म्लेच्छ जाति (परह  
१, १) ।

पोकण न [व्याहरण, पूकरण] १ पुकार;  
आह्वान । २ वि. पुकारनेवाला (कुमा) ।

पोकर देखो पुकर : पोकरंति (महा) । वक्र.  
पोकरंत (सुपा ३८०) ।

पोकरिय वि [पूकृत] १ पुकारा हुआ (सुर  
६, १६४) । २ न. पुकार (दंस ३) ।

पोकर देखो पुकार = पूकार (उप पृ १८५) ।

पोक्किअ देखो पोकरिय (उप १०३१ टी) ।

पोक्खर न [पुक्कर] १ जल, पानी । २  
पत्र, कमल । ३ पत्र-कोप । ४ एक तीर्थ,  
अजमेर-नगर के पास का एक जलाशय—  
तीर्थ । ५ हाथी की सूँड़ का अग्र भाग । ६  
वाद्य-भाण्ड । ७ आपण, दूकान । ८ अस्ति-  
कोप, तलवार की म्यान । ९ मुख, मुँह ।

१० कुष्ठ रोग की औषधि । ११ द्वीप-विशेष ।  
१२ युद्ध, लड़ाई । १३ शर, बाण । १४  
आकाश; 'पोक्खरं' (हे १, ११६; २, ४;  
संक्षि ४) । १५ पुं. नाग-विशेष । १६ रोग-  
विशेष । १७ सारस पक्षी । १८ एक राजा  
का नाम । १९ पर्वत-विशेष । २० बहण-  
पुत्र; 'पोक्खरो' (प्राप्र) । देखो पुक्खर ।

पोक्खर वि [पौक्कर] १ पुक्कर-सम्बन्धी ।  
३ पञ्चाकार रचनावाला; 'पोक्खरं पवहणं'  
(चार ७०) ।

पोक्खरिणी स्त्री [पुक्करिणी] १ जलाशय-  
विशेष, बर्तुल वापी (णाय १, १—पत्र  
६३) । २ पत्थिनी, कमलिनी, पत्र-लता;  
'जलेण वा पोक्खरिणीपलासं' (उत्त ३२,  
६०) । ३ वापी (कुमा) । ४ पत्र-समूह । ५  
पुक्कर-मूल (हे २, ४) । ६ चौकोना जला-  
शय, पोखरी, वापी (परह १, १; हे २, ४) ।

पोक्खल देखो पुक्खल (परण १—पत्र ३५;  
आचा २, १, ८, ११) ।

पोक्खलच्छिअलय } देखो पुक्खलच्छिअ-  
पोक्खलच्छिअलय } भय (परण १—पत्र  
३५; राज) ।

पोक्खलि पुं [पुक्कलिन्] एक जैन उपा-  
सक; जिसका दूसरा नाम शतक था (राज) ।

पोगगर पुं [पुद्गल] १ रूपादि-विशिष्ट  
पोगगल } द्रव्य, मूर्त द्रव्य, रूपवाला पदार्थ  
'पोगगला' (भाग ८, १; ठा २, ४; ४, ४;

५, ३; न), 'पोगलाई' (सुज्ज ६; पंच ३, ४६)। २ न. मांस (पव २६८; हे १, ११६)। °रियआय पुं [°स्तिक्राय] पुद्गल-स्कन्व; पुद्गल-राशि (भग; ठा ५, ३)। °परहृ, °परियहृ पुं [°परिवर्त] १ समस्त पुद्गल-द्रव्यों के साथ एक-एक परमाणु का संयोग-वियोग। २ समय का उल्लूतम परिमाण-विशेष, अनन्तः कालचक्र-परिमित समय (कम्म ५, ८६; भग १२, ४; ठा ३, ४)।

पोग्गलि वि [पुद्गलिन] पुद्गलवाला, पुद्गल-युक्त (भग ८, १०—पत्र ४२३)।

पोग्गलिये वि [पौद्गलिक] पुद्गल-मय, पुद्गल-संबन्धी, पुद्गल का (पिंडभा ३२४)।

पोच्च वि [दे] सुकुमार, कोमल; गुजराती में 'पोचु' (दे ६, ६०)।

पोच्चड वि [दे] १ असार, निस्सार (खाया १, ३—पत्र ६४)। २ अतिनिविड (परह १, १—पत्र १४)। ३ मलिन (निचू ११)।

पोच्छल अक [प्रोत् + शल्] उछलना, ऊँचा जाना। वक्र. पोच्छलंत (सुर १३, ४१)।

पोच्छाहण न [प्रोत्साहन] उत्तेजन (विणी १०५)।

पोच्छाहिअ वि [प्रोत्साहित] विशेष उत्साहित किया हुआ, उत्तेजित (सुर १३, २६)।

पोट्ट पुं [पुत्र] लड़का, 'एककेण चारभड-पोट्टेण' (वव १, टी)।

पोट्ट न [दे] पेट, उदर, मराठी में 'पोट' (दे ६, ६०; खाया १, १—पत्र ६१; योगभा ७६; गा ८३; १७१; २८५; स ११६; ७३८; उवा; सुख २, १५; सुपा ५४३; प्राक् ३७; पव १३५; जं २)। °साल पुं [°शाल] एक परिव्राजक का नाम (विसे २४५२; ५५)। °सारणी स्त्री [°सारणी] अतीसार रोग (आव ४)।

पोट्ट १ न [दे] पोदला, गट्टर, गठरी; पोट्टल 'कामिणिनियंविदं कंदम्वविलासराय-हाणित्ति। न मुणइ अमेज्जपोट्ट' (सुपा ३५५; दे २, २४; स १००)।

पोट्टलिमा स्त्री [दे] पोदली, गठरी (सुख २, १७)।

पोट्टलिय वि [दे] पोदली उठानेवाला, गठरी-वाहक (निचू १६)।

पोट्टलिया [दे] देखो पोट्टलिमा (उप पृ ३८७; सुर १२, ११; सुख २, १७)।

पोट्टि स्त्री [दे] उदर-पेशी (मृच्छ २००)।

पोट्टिल पुं [पोट्टिल] १ भारतवर्ष का भावी नववां तीर्थंकर—जिन-देव (सम १५३)।

२ भारतवर्ष के चौथे भावी जिन-देव का पूर्वमकीय नाम (सम १५४)। ३ भगवान् महावीर का व्युत्क्रम से छठवें भव का नाम (सम १०५)। ४ एक जैन मुनि, जिसने भगवान् महावीर के समय में तीर्थंकर-नाम-कर्म बंधा था (ठा ६)। ५ एक जैन मुनि (पउम २०, २१)। ६ देव-विशेष (खाया १, १४)। ७ देखो पोट्टिल (राज)।

पोट्टिलं स्त्री [पोट्टिला] व्यक्ति-वाचक नाम, एक स्त्री का नाम (खाया १, १४)।

पोट्टिस पुं [पोट्टिस] एक कवि का नाम (कप्पू)।

पोट्टवई स्त्री [प्रौष्ठपदी] १ भाद्रपद मास की पूर्णिमा। २ भादों की अमावस्या (सुज्ज १०, ६)।

पोट्टिल पुं [पुट्टिल] भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर-विमान में उत्पन्न एक जैन मुनि (अनु)।

पोडडल न [दे] तृण-विशेष (परण १—पत्र ३३)।

पोड वि [प्रौड] १ समय (पात्र)। २ निपुण, चतुर। २ प्रगल्भ। ४ प्रवृद्ध, यौवन के बाद की अवस्थावाला (उप पृ ८६; सुपा २२४; रंभा; नाट—मालती १३६)। °वाय पुं [°वाद] प्रतिज्ञा-पूर्वक प्रत्याख्यान (गा ५२२)।

पोडा स्त्री [प्रौडा] १ तीस से पचपन वर्ष तक की स्त्री (कुप्र १८५)। २ नायिका का एक भेद, शृङ्गार रस में काम-कला आदि अच्छी तरह जाननेवाली (प्राक् १०)।

पोडिम पुं स्त्री [प्रौडमन्] प्रौढता, प्रौढपन (मोह २)।

पोडी स्त्री [प्रौडी] ऊपर देखो (कुप्र ४०७)।

पोणिअ वि [दे] पूर्ण (दे ६, २८)।

पोणिआ स्त्री [दे] सूते से भरा हुआ तकुवा (दे ६, ६१)।

पोत देखो पोअ = पोत (औप; बृह १; खाया १, ८)।

पोतणया देखो पोअगा (उप पृ ४१२)।

पोत्त पुं [पौत्र] पुत्र का पुत्र, पोता (दे २, ७२; आ १४)।

पोत्त न [पोत्र] प्रवहण, नौका; 'विलाउल्लिम ओयारियाणि सव्वाणि तेण पोत्ताणि' (उप ५६७ टी)।

पोत्त १ न [पोत] १ वक्र, कपड़ा (आ पोत्ताग १२; श्रोप १६८; कप्पू; स ३३२)।

२ धोती, कटी-वस्त्र (गच्छ ३, १८; कस; वव ८४; आवक ६३ टी; महा)। ३ वस्त्र-खण्ड (पिंड ३०८)।

पोत्तय पुं [दे] फोता, वृषण, अण्डकोश (दे ६, ६२)।

पोत्तिअ न [पौतिक] वस्त्र, सूती कपड़ा (ठा ५, ३—पत्र ३३८; कस २, २६ टि)।

पोत्तिअ वि [पोतिक] १ वस्त्र-धारी। २ पुं. वानप्रस्थों का एक भेद (औप)।

पोत्तिआ स्त्री [पौत्रिका] पुत्र की लड़की (रंभा)।

पोत्तिआ स्त्री [दे] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १४७)।

पोत्तिआ १ स्त्री [पोतिका, पोती] १ धोती, पोती पहनने का वस्त्र, साड़ी (विसे २६०१)। २ छोटा वस्त्र, वस्त्र-खण्ड; 'चउ-फ्फालयाए पोत्तीए मुहं बंधेत्ता' (खाया १, १—पत्र ५३; पिंडभा ६), 'मुहपोत्तियाए' (विपा १, १)।

पोत्ती स्त्री [दे] काच, शीशा (दे ६, ६०)।

पोत्तुहया देखो पोत्तिआ (खाया १, १८—पत्र २३५)।

पोत्थ पुं न [पुस्त, °क] १ वस्त्र, कपड़ा

पोत्थग (खाया १, १३—पत्र १७६)। २-पोत्थय ३ देखो पुत्थ; 'पोत्थकम्मजक्खा विव निचिद्धा' (वसु; आ १२; सुपा २८६; विसे १४२५; बृह ३; प्राप्र; औप)।

पोत्था स्त्री [प्रोत्था] प्रोत्थान, मूलोत्पत्ति (उत्त २०, १६)।

पोत्थार पुं [पुस्तककार] पोथी लिखनेवाला, पोथी बनाने का काम करनेवाला शिल्पी, दफ्तरी, जिल्दसाज (जीव ३)।

पोरिथ्या क्री [पुस्तिका] पोयो, पुस्तक; 'सरस्मद् व्व पोरिथ्यावलगाहृत्या' (काल) ।  
 पोप्य पुंन [दे] हस्त-भरिमपण, हाव फिराना (उप पृ २५३) ।  
 पोपफल न [पूगफल] सुपारी (हे १, १७०; कुमा) ।  
 पोपफली क्री [पूगफली] सुपारी का पेड़ (हे १, १७०; कुमा) ।  
 पोम देखो पडम; 'जहा पोमं जले जायं' (उत्त २५, २७; सुत्र २५, २७; पडम ५३, ७६) ।  
 पोमर न [दे] कुमुभ-रक्त वन्न (दि ६, ६३) ।  
 पोसाड पुं [दे. पद्माट] पमाड, पमार, चकवड का पेड़ (स १४४) । देखो पडमाड ।  
 पोसावई क्री [पद्मावती] छन्द-विशेष (पिंग) ।  
 पोमिणी देखो पडमिणी (सुपा ६४६; सम्मत १७१) ।  
 पोम्म देखो पडम (हे १, ६१; १, २, ११२; गा ७५; कुमा; प्राकृ २८; कप्पू; पि १६६) ।  
 पोम्मा देखो पडमा (प्राकृ २८; गा ४७१; पि १६६) ।  
 पोम्ह देखो पम्ह = पवमन्; 'जह उ किर रानिगाए वणियं निदुल्यपोम्हनरियाए' (धर्मसं ६८०) ।  
 पोर पुं [पूतर] जल में होनेवाला सुदुर् जन्तु (हे १, १७०; कुमा) ।  
 पोर वि [पौर] पुर में—नगर में उत्पन्न, नागरिक (प्राकृ ३५) ।  
 पोर देखो पुर = पुरस् । 'कण्य न [काव्य] शीघ्रकवित्व (राज) ।  
 पोर पुंन [दे. पर्वन्] ग्रंथि, गाँठ (जा ४, १; श्रु) । वीय वि [वीज] पर्व-बीज से उगनेवाली वनस्पति, इन्धु आदि (जा ४, १) ।  
 पोरग पुंन [पर्वक] वनस्पति का एक भेद, पर्ववाली वनस्पति (पण १—पत्र ३३) ।  
 पोरच्छ पुं [दे] दुर्जन, खल (दे ६, ६२ पात्र) ।  
 पोरच्छिम देखो पुरच्छिम (सुपा ४१) ।  
 पोरथ्य वि [दे] मत्सरी, इप्यान्तु, द्वेषी (पड) ।  
 योरय न [दे] क्षेत्र (दे ६, २६) ।

पोरय पुं [पोरय] राजा पुय की संतान (श्रमि ६५) ।  
 पोखाड पुं [पोरवाट] एक जैन आवक-कुल (ती २) ।  
 पोराण देखो पुराण (पण २८; श्रौप; नग; हे ४, २८; उप; गा २४०) ।  
 पोराण वि [पोराण] १ पुराण-सम्बन्धी (राय) । २ पुराय शास्त्र का ज्ञाता (राज) ।  
 पोराणिय वि [पौराणिक] पुराण-शास्त्र-संबन्धी (स ३४४) ।  
 पोरिस न [पोरुप] १ पुत्रपत्न, पुत्रवार्थ (प्रानू १७) । २ पराक्रम (कुमा) ।  
 पोरिस वि [पोरुपेय] पुत्र्य-जन्य, पुत्र्य-प्रणीत (धर्मसं ८६२ टी) ।  
 पोरिसिमंडल न [पोरुपीमण्डल] एक जैन शास्त्र (संदि २०२) ।  
 पोरिसिय देखो पोरिसीय; 'अत्याहमतारम-पोरिसियंसि जदंगंसि अण्णायं मुयति' (गामा १, १४—पत्र १६०) ।  
 पोरिसी क्री [पोरुपी] १ पुत्र्य-शरीर-प्रमाण छाया । २ जो समय में पुत्र्य-परिमाण छाया हो वह काल, प्रहर (उवा; विपा २, १; आचा; कप्प; पत्र ४) । ३ प्रथम प्रहर तक भोजन आदि का त्याग, प्रत्यात्यान-विशेष, तप-विशेष (पत्र ४; संबोध ५७) ।  
 पोरिसीय वि [पोरुपिक] पुत्र्य-प्रमाण, पुत्र्य-परिमित; 'कुंमो महंताहियपोरिसीया' (सूत्र १, ५, १, २४) ।  
 पोरुस पुं [पोरुप] अत्यन्त बृद्ध पुत्र्य (सूत्र १, ७, १०) ।  
 पोरुस देखो पोरिस (स २०४; उप ७२८ टी; महा) ।  
 पोरेकच्च न [पोरस्कृत्य] पुरस्कार, क्ला-पोरेगच्च विशेष (श्रौप; राय; श्रौप १०७ टि) ।  
 पोरेवच्च न [पोरोवृत्य] पुरोवर्तित्व, अग्रेसरता (श्रौप; सम ८६; विपा १, १; कप्प) ।  
 पोलंड सक [प्रोत + लङ्घ] विशेष उल्लंघन करना । पोलंड (गामा १, १—पत्र ६१) ।  
 पोलवा क्री [दे] खेतिव भूमि, कृष्ट जमीन (दे ६, ६३) ।

पोलास न [पोलास] १ नगर-विशेष, पोलासपुर (उवा) । २ उद्यान-विशेष (राज) ।  
 पुर न [पुर] नगर-विशेष (उवा; श्रंत) ।  
 पोलासाड न [पोलापाड] स्वतंत्रिका नगर का एक चैत्य (वित्ते २३५७) ।  
 पोलिय पुं [दे] सौमिक, कृत्वा (दे ६, ६२) ।  
 पोलिया क्री [दे. पौलिका] साध-विशेष, पूय (?) ; 'सुण्णो इव पोलियासत्तो' (उप ७२८ टी; राज) ।  
 पोली देखो पओली; 'वद्धेमु पोलिदारमु, गवेसंता अ धुत्तयं' (श्रा १२; उप-पृ ८४; धर्मवि ७७) ।  
 पोह वि [दे] पोला, गुपिर, खाली, रिक्त; 'पोलो व्व पुट्टी जह ने अन्तारं' (उत्त २०, ४२; गामा १, १—पत्र ६३; पत्र ८१), 'वंका कीडक्खइया चित्तलया पोत्तया य दद्दा य' (महा) ।  
 पोहड वि [दे] ऊपर देखो; 'वंका कीडक्खइया चित्तलया पोत्तया य दद्दा य' (श्रौव ७३५; विचार ३३६) ।  
 पोहर न [दे] तप-विशेष, निर्विकृतिक तप (संबोध ५८) ।  
 पोस सक [पोप] पुष्ट होना । पोसइ (घात्वा १४५; नवि) ।  
 पोस सक [पोपय] १ पुष्ट करना । २ पालन करना । पोसइ (पंचा १०, १४); 'मायरं पियरं पोस' (सूत्र १, ३, २, ४), पोसाहि (सूत्र १, २, १, १६) । कवक, पोसिज्जंत (गा १३५) ।  
 पोस वि [पोप] १ पोषक, पुष्टि-कारक; 'अभिक्खणं पोसवत्थं परिहितं' (सूत्र १, ४, १, ३) । २ पुं. पोपण, पुष्टि (संबोध ३६) ।  
 पोस पुं [पोस] १ अज्ञान-देश, गुदा (पण १, ४—पत्र ७८; श्रौव ५५६; श्रौप) । २ योनि (निचू ६) । ३ लिंग, उत्पत्ति; 'एवतो-तपरिस्सवा बांठी पणत्ता, तं जहा; दो संत्ता, दो खेत्ता, दो धाणा, मुहं, पोसे, पाज्ज' (जा ६—पत्र ४५०) ।  
 पोस पुं [पोप] पोप मात्र (सम ३५) ।  
 पोसग वि [पोपक] १ पुष्टि-कारक । २ पालन-कर्ता (पण १, २) ।

पोसण न [पोपण] १ पुष्टि (परह १; २) ।  
 २ पालन । ३ वि. पोपण-कर्तः 'लोग परं  
 पि जहासिपोसणो' (सूत्र १, २, १, १६) ।  
 पोसण न [पोसन] अपान, गुदा (जं ३) ।  
 पोसणया ली [पोपणा] १ पोपण, पुष्टि ।  
 २ भरण, पालन (उवा) ।  
 पोसय देखो पोस = पोस; 'पोसए ति' (ठा  
 ६ टी—पत्र ४५०; बृह ४) ।  
 पोसय देखो पोसग (राज) ।  
 पोसह पुं [पोपध, पौपध] १ अष्टमी,  
 चतुदशी आदि पर्वतियि में करने योग्य जैन  
 श्रावक का व्रत-विशेष, ग्राहार-आदि के त्याग-  
 पूर्वक किया जाता अनुष्ठान-विशेष (सम १६;  
 उवा; औप; महा; सुपा ६१६; ६२०) । २  
 पर्व-दिवस—अष्टमी, चतुदशी आदि पर्व-  
 तियि; 'पोसहसहो ह्वीए एव्य पव्वाणुवायओ  
 मण्णियो' (सुपा ६१६) । पंडिमा ली  
 [प्रतिमा] जैन श्रावक को करने योग्य  
 अनुष्ठान-विशेष, व्रत-विशेष (पंचा १०, ३) ।  
 वय न [व्रत] वही पूर्वोक्त अर्थ (पडि) ।  
 साला ली [शाला] पौपध-व्रत करने का  
 स्थान (एपाया १, १—पत्र ३१; अंत; महा) ।  
 पोवसास पुं [पोपसास] पर्वदिन में उप-  
 वास-पूर्वक किया जाता जैन श्रावक का अनु-  
 स्थान-विशेष, जैन श्रावक का ग्यारहवां व्रत  
 (औप; सुपा ६१६) ।  
 पोसहिय वि [पौपधिक] जिसने पोपध-  
 व्रत किया हो वह, पौपध करनेवाला (एपाया  
 १, १—पत्र ३०; सुपा ६१६; धर्मवि २७) ।  
 पोसिअ वि [दे] दुःस्थ, दरिद्र, दुःखी (दे  
 ६, ६१) ।  
 पोसिअ वि [पुष्ट] पोपण-युक्त (भवि) ।  
 पोसिअ वि [पोपित] १ पुष्ट किया हुआ ।  
 २ पालित (उत्त २७, १४) ।  
 पोसिअ (शौ) वि [प्रोपित] प्रवास—विदेश में  
 गया हुआ । भत्तुआ ली [भत्तुका] जिसको  
 पति प्रवास—परदेश में गया हो वह ली  
 (स्वप्न १३४) ।  
 पोसो ली [पोपी] १ पौप मास की पूर्णिमा ।  
 २ पौप मास की अमावस (सुज १०, ६;  
 इक) ।

पोह पुं [दे] वैल आदि की विष्ठा का डेर  
 कच्छी भाषा में 'पोह' (पिड २४५) ।  
 पोह पुं [प्रोथ] अरब के मुख का प्रान्त भाग  
 (गउड) ।  
 पोहण पुं [दे] छोटी मछली (दे ६, ६२) ।  
 पोहत्त न [पुथुत्त] चौड़ाई (भग) ।  
 पोहत्त देखो पुहत्त (पि ७८) ।  
 पोहत्तिय वि [पार्थक्त्विक्] प्रयक्त्व-संबन्धी  
 (परण २२—पत्र ६३६; ६४०; २३—पत्र  
 ६६४) ।  
 पोहल देखो पोफ्फल (पड) ।  
 पो देखो प = प्र; 'विपोसहिपत्ताणं' (संति  
 २; गउड) ।  
 पोआस देखो पयास = प्रयास (अभि ११७) ।  
 पोउत्त देखो पउत्त = प्रवृत्त (मा ३) ।  
 पोचअ देखो पचय (अभि १७६) ।  
 पोडव (मा) अक [प्र + तप्] गरम होना ।  
 पडवदि (पि २१६) ।  
 पोडिआर देखो पडिआर = प्रतिकार (मा  
 ४३) ।  
 पोडिहा देखो पडिहा = प्रतिभा (कुमा) ।  
 पोणइ देखो पणइ = प्रणयिन् (कुमा) ।  
 पोणाम देखो पणाम = प्रणाम (हे ३,  
 १०५) ।  
 पोणास देखो पणास = प्रणाय (सुपा  
 ६५७) ।  
 पोण्णा देखो पण्णा = प्रज्ञा (कुमा) ।  
 पोप्याण देखो पप्याण (अभि ८१) ।  
 पोपेस देखो पपेस (नाट—विक्र ४) ।  
 पोफुरिद (शौ) देखो पफुरिअ (नाट—  
 मालती ५४) ।  
 पोपंध देखो पंध (रंभा) ।  
 पोपिदि देखो पिभिइ (रंभा) ।  
 पोपभूद (शौ) देखो पभूय (नाट—वेणी  
 ३६) ।  
 पोपमत्त देखो पमत्त (अभि १८५) ।  
 पोपमाण देखो पमाण (पि ३६६ ए) ।  
 पोपमुक्क देखो पमुक्क (नाट—उत्तर ५६) ।  
 पोपमुह देखो पमुह (गउड) ।  
 पोपयर देखो पयर (कुमा) ।  
 पोपयाव देखो पयाव (कुमा) ।

पोपयास देखो पयास=प्रकाश (सुपा ६५७) ।  
 पोपलावि देखो पलावि (अभि ४६) ।  
 पोपवत्तण देखो पवत्तण; 'अभिअणिय सुह-  
 णवत्तणं' (अभि ४) ।  
 पोपवह देखो पवह (कुमा) ।  
 पोपवेस देखो पवेस (रंभा) ।  
 पोपवेसि देखो पवेसि (अभि १७५) ।  
 पोपसर देखो पसर = प्र + सृ। वक्र. पोपसरंत  
 (रंभा) ।  
 पोपसर देखो पसर = प्रसर ।  
 पोपसव देखो पसव = (नाट—मालवि ३७) ।  
 पोपसाय देखो पसाय = प्रसाद (रंभा) ।  
 पोपसुत्त देखो पसुत्त (रंभा) ।  
 पोपसुद (शौ) देखो पसूअ = प्रसूत (अभि  
 १४०) ।  
 पोपहर देखो पहर = प्रहार (से २, ४; पि  
 २६७ ए) ।  
 पोपहा देखो पहा (कुमा) ।  
 पोपहाण देखो पहाण (रंभा) ।  
 पोपहाय देखो पहाय = प्रभाव; 'पहाउ'  
 (रंभा) ।  
 पोपहार देखो पहार (रंभा) ।  
 पोपहाव देखो पहाव (अभि ११६) ।  
 पोपहु देखो पहु (रंभा) ।  
 पोपारंभ देखो पारंभ (रंभा) ।  
 पोपिअ देखो पिअ = प्रिय (अभि ११८; मा  
 १८) ।  
 पोपिआ देखो पिआ (कुमा) ।  
 पोपिव देखो इव (प्राक २६) ।  
 पोपेम देखो पेम (पि ४०४) ।  
 पोपेम्म देखो पेम्म (कुमा) ।  
 पोपोड देखो पोड (रंभा) ।  
 पोफंस देखो फंस = स्पर्श (काप्र ७४३; गा  
 ४६२; ५५६) ।  
 पोफणा देखो फणा (सुपा ५३५) ।  
 पोफट्टा देखो फट्टा (कुमा) ।  
 पोफल देखो फल (पि २००) ।  
 पोफाल सक [स्फालय्] १ श्राघात करना ।  
 २ पछाड़ना । प्फालउ (पिग) ।

°फालग न [स्फालन] आघात (गवडः गा ५४६) ।	प्रस्त (अप) देखो पस्त = दृश् । प्रस्तदि (हे ४, ३६३) ।	प्रिय (अप) देखो पिय = प्रिय (हे ४, ३६५; कुमा) ।
°फुड देखो फुड (कुमाः रंभा) ।	प्राइन्व } (अप) देखो पाय = प्रायस् (हे ४, ४१४; कुमा) ।	प्रेकिअ न [दे] वृष रटित, वैल की चिन्नाहट (पड्) ।
°फोडग देखो फोडग (गा ३८१) ।	प्राड }	प्रेयंड वि [दे] धूर्त, ठा (दे १, ४) ।

॥ इअ सिरिपाइअसद्महणवम्मि पअाराइसद्संकलणो

सत्तावीसइमो तरंगो परिसमतो ॥

## फ

फ पुं [फ] श्रोष्ठ-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्राप्र) ।	फंस सक [स्फुश्] झूना । फंसइ, फंसेइ (हे ४, १८२; प्राकृ २७) । कर्म, फंसिजइ (कुमा) ।	फग्गु पुं [दे. फल्गु] वसन्त का उत्सव, फगुआ (दे ६, ८२) ।
फंद अक [स्पन्द] थोड़ा हिलना, फरकना । फंदइ, फंदंति (हे ४, १२७; उत्त १४, ४५) । वहु. फंदंत, फंदमाण (सूअ १, ४, १, ६; ठा ७—पत्र ३८३; कप्प) ।	फंस पुं [स्पर्श] स्पर्श, झूना (पाअ; प्राप्र; प्राकृ २७; गा २६६) ।	फग्गुण पुं [फाल्गुन] १ मास-विशेष, फागुन का महिना (पाअ; कप्प) । २ अजुन, मध्यम परलुपुन (वंजा १३०) ।
फंद पुं [स्पन्द] किञ्चित् चलन (पड्; सरा) ।	फंसण न [स्पर्शन] झूना, स्पर्श करना (उप ३३० टी; वर्मंवि ४३, मोह २६) ।	फागुणी ली [फाल्गुनी] १ फागुन मास की पूर्णिमा (इक; सुज १०, ६) । २ फागुन मास की अमावस्या (सुज १०, ६) । ३ एक गृह-पति की ली (उवा) ।
फंदण न [स्पन्दन] ऊपर देखो (विसे १८४७; हे २, ५३; प्राप्र) ।	फंसण वि [पांसन] अपसद, अवम; 'कुल-फंसणो' (सुख २, ६; स १६८; भवि) ।	फागुणी ली [फाल्गुनी] नक्षत्र-विशेष (ठा २, ३) ।
फंदणा ली [स्पन्दना] ऊपर देखो (सूअनि ८ टी) ।	फंसण वि [दे] १ युक्त, संयत । २ मलिन, मैला (दे ६, ८७) ।	फट्ट अक [स्फट्] फटना, हटना । फट्टइ (भवि) ।
फंदिअ वि [स्पन्दित] १ कुछ हिला हुआ, फरका हुआ (पाअ) । २ हिलाया हुआ, ईपत्त चालित (जीव ३) ।	फंसुल वि [दे] मुक्त, त्यक्त (दे ६, ८२) ।	फड सक [स्फट्] १ छोदना । २ शोचना । वहु. 'गतं फडमाणीओ' (सुपा ६१३) । हेक. फडिउं (सुपा ६१३) ।
फंफ (अप) अक [उद् + गम्] उछलना । फंफाइ (पिंग १८४, ५) ।	फंसुली ली [दे] नवमालिका, पुष्प-प्रधान वृक्ष-विशेष (दे ६, ८२) ।	फड न [दे] साँप का सर्व शरीर (दे ६, ८६) ।
फंफसय पुं [दे] लता-नेद, वल्ली-विशेष (दे ६, ८३) ।	फक्किया ली [फक्किआ] ग्रन्थ का विपम स्थान, कठिन स्थान (सुर १६, २४७) ।	फड पुंन-[दे. फट] साँप की फणा (दे ६, ८६; कुप्र ४७२) ।
फंफाइ (अप) वि [कम्पायित, कम्पित] कँपाया हुआ, कम्प-प्राप्त (पिंग) ।	फग्गु वि [फल्गु] १ असार, निरर्थक, तुच्छ (सुर ८, ३; संवोध १६; गा ३६६ अ) । २ ली. भगवान् अजितनाथ की प्रथम शिष्या (सम १५२) । °मित्त पुं [मित्त] स्वनाम-त्वात् एक जैन मुनि (कप्प) । °रक्खिय पुं [रक्षित] एक जैन मुनि (आव १) । °सिरी ली [°श्री] इस ध्वजसर्पिणी काल के पंचम आरे में होनेवाली अन्तिम जैन साध्वी (विचार ५३४) ।	फडही [दे] देखो फलही (गा ५५० अ) ।
फंस अक [विसम् + वद] असत्य प्रमाणित होना, प्रमाण-विरुद्ध होना, अप्रमाण साबित होना । फंसइ (हे ४, १२६) । प्रयो, भुका-फंसाविही (कुमा) ।		फडा ली [फटा] साँप की फन, सर्प-फणा (गाया १, ६; पउम ५२, ५; पाअ; श्रौप) । °ल वि [°वत्] फनवाला (हे २, १५६; चंड) ।

फडिअ वि [स्फटित्] खोदा हुआ, 'तो योवे-  
सवरोहिं नरोहिं फडिया ऋजति ता गता' (सुपा  
६१३)।

फडिअ) देखो फलिह = स्फटिक (नाट—  
फडिग) रत्ना ८३); 'फडिगपाहाणनिभा'  
(निद्र ७)।

फडिह देखो फडा-ल (चंड)।

फडिह पुं [परिच] १ अंगला, आगल (से  
१३, ३८)। २ कुठार (से ५, ५४)।

फडिहा देखो फलिहा = परिखा (से १२,  
७५)।

फड्डु पुं [दे. स्पर्ध, °क] १ अंश,  
फड्डुग नाग, निस्ता, युवराजों में 'फडिड';  
फड्डु 'कम्मियकहमिस्ता चुल्लो उक्खा य  
फड्डुग' फड्डुगुया उ' (पिड २५३)। २

संपूर्ण गण के अविद्याता के वशवर्ती गण का  
एक लघुतर हिस्ता, समुदाय का एक अति  
छोटा विभाग जो संपूर्ण समुदाय के अव्यक्त के  
अधीन हो: 'गच्छागच्छिं शुम्मायुम्मि फड्डाफडि'  
(श्रीप: वृह १)। ३ द्वार आदि का छोटा  
द्विद्र, विवर। ४ अवधितान का निर्गम-स्वान्त:  
'फड्डा य अत्तंवेजा', 'फड्डा य आरागामी'  
(चित्ते ७३८; ७३९)। ५ समुदाय; 'तत्त्व  
पव्वइयगा फड्डोहि एंति' (आवम: आत्त १)।  
६ समुदाय-विशेष, वर्गणा-समुदाय; 'नेहप्यचय-  
फड्डुमिगं अविभागवग्गणा एंता' (कम्मप २८;  
४४; पंच ३, २८; ५, १८३; १८४; जीवस  
७६); 'तं शिगफड्डुं संति', 'तासि खलु  
फड्डुगाइं तु' (पंच ५, १७९; १७१)।  
'वइ पुं [°पति] गण के अवात्तर विभाग  
का नायक (वृह १)।

फण पुं [फण] फन, सर्प की फणा (से ६,  
५५; पात्र: गा २४०; सुपा १; प्रासू ५१)।

फणग पुं [दे. फनक] कंधा, केश सवारने  
का उपकरण (उत्त २२, ३०)।

फणज्जुय पुं [दे.] वनस्पति-विशेष, 'तुलसी  
कएह-ओराले फणज्जुय अजए य भुयणए'  
(परएण १—पत्र ३४)।

फणस पुं [फनस] कटहर का पेड़ (परएण  
१; हे १, २३२; प्राप्र)।

फणा स्त्री [फणा] फन (सुर २, २३६)।

फणि पुं [फणिन्] १ सर्प, सर्प: नाग (उप  
३५७ टी: पात्र: सुपा ५५६; महा: कुमा)।

२ दो कला या एक गुरु अक्षर की संज्ञा  
(पिंग)। ३ प्राकृत-पिंगल का कर्ता, पिंगला-  
चार्य (पिंग)। ४ 'विध पुं [°विह] भगवान्  
पारवनाय (कुमा)। ५ 'पहु पुं [°प्रभु] १  
नागकुमार देवों का एक स्वामी, धरणेन्द्र  
(ती ३)। २ शेष नाग (धर्मवि ५७)। ३ 'राय  
पुं [°राज] १ शेष नाग (कुप्र २७२)। २  
पिंगल-कर्ता (पिंग)। ४ 'लआ स्त्री [°लता]  
नागलता, बह्नी-विशेष, (कप्पू)। ५ 'वइ पुं  
[°पति] १ इन्द्र-विशेष, धरणेन्द्र (सुपा ३१)।  
२ नाग-राज (मोह २९)। ३ पिंगलकार  
(पिंग)। ४ 'सेहर पुं [°शेखर] प्राकृत-पिंगल  
का कर्ता (पिंग)।

फणिद पुं [फणीन्द्र] १ नाग-राज, शेष नाग  
(प्रासू ११३)। २ पिंगलकार (पिंग)।

फणिल सक [चोरय] चोरी करना।  
फणिल्लइ (धात्वा १४६)।

फणिह पुं [दे. फणिह] कंधा, केश सवारने  
का उपकरण (सुप्र १, ४, २, ११)।

फणीसर पुं [फणीश्वर] देखो फणि-वइ  
(पिंग)।

फणुज्जय देखो फणज्जुय (राज)।

फट्ट पुं [स्पर्ध] स्वर्वा, हिंस (कुमा)।

फट्टा स्त्री [स्पर्धा] ऊपर देखो (दे ८, १३;  
कुमा ३, १८)।

फट्टि वि [स्पर्धिन्] स्वर्वा करनेवाला (प्राकृ  
२३)।

फर पुं [दे. फल, °क] १ काष्ठ आदि  
फरअ) का तत्त्वा। २ ढाल। (दे १, ७६; ६,  
८२; कप्पू: सुर २, ३१)। देखो फल,  
फलग।

फरअ पुं [दे. स्फरक] यज्ञ-विशेष, 'फरएहि  
छाइअणं तेवि ह गिएहंति जीवंतं' (धर्मवि  
८०)।

फरकिद वि [दे.] फरका हुआ, हिला हुआ,  
कम्पित (कप्पू)।

फरस देखो फरिस = स्पर्श (रंभा: नाट)।

फरलु पुं [परशु] कुठार, कुल्हाड़ा, फरसा  
(भवि: पि २०४)। १ 'राम पुं [°राम] ब्राह्मण-  
विशेष, जमदग्नि ऋषि का पुत्र (भत १५३)।

फरहर अक [फरफराय] फरफर आवाज  
करना। वक्र. फरहरंत (भवि)।

फरित देखो फलिह = स्फटिक (इक)।

फरिस सक [स्पृश] छूना। फरिसइ  
(पड); फरिसइ (प्राकृ २७)। कर्म. फरि-  
सिजइ (कुमा)। कवक्र. फरिसिजंत (धर्मवि  
१३६)।

फरिस पुं [स्पर्श, °क] स्पर्श, छूना  
फरिसग) (आचा: परह १, १; गा १३२;  
प्राप्र: पात्र: कप्पू); 'न य कीरइ तएणफरिस'  
(गच्छ २, ४४)।

फरिसण न [स्पर्शन] इन्द्रिय-विशेष, त्वग्नि-  
न्द्रिय (कुप्र २२४)।

फरिसिय वि [स्पृष्ट] छुपा हुआ (कुप्र १६;  
४२)।

फरिहा देखो फलिहा = परिखा (एया १,  
१२)।

फरुस वि [परुष] १ कर्कश, कठिन (उवा:  
पात्र: हे १, २३२; प्राप्र)। २ न. कुवचन,  
निष्ठुर वाक्य; 'एय यावि किंचो फरुसं वदेजा'  
(सुप्र १, १४, ७; २१)।

फरुस पुं [दे. परुष, °क] कुम्भकार,  
फरुसग) कुम्हार, कोहार, कुंभार; 'पोग्गलमो-  
यगफरुसगदंते' (वृह ४)। 'साळा स्त्री [°शाळा]  
कुंभकार-गृह (वृह ३)।

फरुसिया स्त्री [परुषता, पारुष्य] कर्कशता,  
निष्ठुरता (आचा)।

फल अक [फल] फलना, फलान्वित होना।  
फलइ (गा १७; ८६४), फलंति (सिरि  
१२८२)। वक्र. फलंत (से ७, ५६)।

फल पुं [फल] १ वृक्षादि का शस्य (आचा:  
कप्पू: कुमा: ठा ९; जी १०)। २ लाभ:  
'पुच्छइ ते सुमिणाणं एएसिं किमिह मह फलो  
होइ' (उप ६८६ टी)। ३ कार्य: 'हेउफलभा-  
वओ होति' (पंचव १; धर्म १)। ४ इष्टानिष्ट-  
कृत कर्म का शुभ या अशुभ फल—परिणाम  
(सम ७२; हे ४, ३३५)। ५ उद्देश्य। ६  
प्रयोजन। ७ विकला। ८ जायफल। ९  
वाण का अग्र भाग। १० फाल। ११ दान।  
१२ मुष्क, अण्डकोप। १३ ढाल। १४  
कक्रोल, गन्ध-द्रव्य-विशेष (हे १, २३)।  
१५ अग्र भाग; 'अट्टु वा मुट्टिणा अट्टु



कुंताइफलेणं (आचा १, ६, ३, १०) ।  
 मंत, व वि [ वत ] फलवाला (आया  
 १, ४; पंचा ४) । वडिडय, वडिडय न  
 [ वडिडक ] ? नगर-विशेष, फलोधि-नामक  
 मरुदेशीय नगर । २ वहाँ का एक जैन मन्दिर  
 (ती ५२) ।

फलअ } पुंन [ फलक ] ? काष्ठ आदि का  
 फलग } तक्ता (आचा; गा ६५६; तंडु  
 २६; नुर १०, १६१; औप) । २ जुए का  
 एक उपकरण (औप; वण ३२) । ३ ढाल;  
 'भरिएहि फलएहि' (विपा १, ३; कुमा;  
 सार्ध १०१) । ४ देखो फल (आचा) ।  
 'सज्जा वी [ शय्या ] काष्ठ का तक्ता  
 जिसपर सोया जाय (भग) ।

फलण न [ फलन ] फलना (सुपा ६) ।

फलह } पुंन [ फलह, क ] फलक, काठ  
 फलहग } आदि का तक्ता; 'अरुसंजए भिक्खु-  
 पडियाए पीढं वा फलहगं वा यिस्तेणिए वा  
 उंदूहलं वा आहट्टु उस्सविय दुद्धेज्जा'  
 (आचा २, १, ६, १), 'भूमिसेज्जा फलह-  
 सेज्जा' (औप), 'वरफलहे' (दे १, ८; पि  
 २०६), 'पेक्खइ मन्दिराइ फलहदुग्गवाडिय-  
 जालगवक्खाइ', 'अह फलहंतरेण दरित्तिय-  
 गुज्जंतरेसेइ' (भवि);

'पिहुपत्तासयमयलं गुणनियरनिवद्धफलहसंघायं ।  
 संजमित्तयलजोगं वोहिट्ठं मुणिवरसत्थि' (सुर १३, ३६) ।

फलहिआ } वी [ फलहिआ, फलही ] काठ  
 फलही } आदि का तक्ता; 'सूरिए अत्यमिए  
 फलहिअं घडेउमाढवइ', 'इव पहाणफनही  
 चिट्ठइ' (ती ११); 'कलावइए ख्वं सिग्घं  
 आलिहसु चित्तफलहीए' (सुर १, १५१) ।

फलही वी [ दे ] ? कपास, कपास (दे ६,  
 ८२; गा १६५, ३५६) । २ कपास की  
 लता; 'दरफुडिअवेटभारोणआइ हसिअं व  
 फलहीए' (गा ३६०) ।

फलाव चक [ फलाव ] फलवान् बनाना,  
 सफल करना; 'ततोवि अ धएणतमा निअव-  
 फलेणं फलावति' (रत्न २६) ।

फलावह वि [ फलावह ] फलप्रद, फल को  
 प्रारण करनेवाला (पउम १४, ४४) ।

फलासव पुं [ फलासव ] मय-विशेष (पएण  
 १७) ।

फलि पुं [ दे ] ? विग, चिह्न । २ वृषभ,  
 बैल (दे ६, ८६) ।

फलिअ वि [ फलित ] ? विकसित, 'फुट्ठिअं  
 फलिअं च दलिअमुट्ठिअं (पाय) । २ फल-  
 युक्त, जिसको फल हुआ हो वह (आया  
 १, ११) ।

फलिअ न [ दे ] वायन, वायन, भोजन आदि का  
 वाटा जाता उपहार (ठा ३, ३—पत्र १४७) ।

फलिआरी वी [ दे ] इर्वा, कुश वृण (दे  
 ६, ८३) ।

फलिणी वी [ फलिनी ] प्रियंगु-वृक्ष (दे १,  
 ३२; ६, ४६; पाय, कुमा; गा २६३) ।

फलिइ पुं [ परिच ] ? अंगला, आगल;  
 'अगला फलिही' (पाय; औप), 'जसिय-  
 फलिहा' (भग २, ५—पत्र १३४) । २  
 अन्न-विशेष, लोहे का मुहर आदि अन्न । ३  
 गृह, घर । ४ काच-घट । ५ ज्योतिष-शास्त्र-  
 प्रसिद्ध एक योग (हे १, २३२; प्राप्र) ।

फलिइ पुं [ स्फटिक ] ? मणि-विशेष, स्फटिक  
 मणि (जी ३; हे १, १६०; कपू) । २ एक  
 विमानावास; देव-विमान-विशेष (दिवेन्द्र १३२;  
 इक) । ३ रत्नप्रभा पृथिवी का एक स्फटिक-  
 मय कारण्ड (ठा १०) । ४ गन्धमादन पर्वत  
 का एक कूट (इक) । ५ कुण्डल पर्वत का  
 एक कूट । ६ रुचक पर्वत का एक शिखर  
 (राज) । 'गिरि पुं [ गिरि ] कैलास पर्वत  
 (पाय) ।

फलिह पुं [ फलिह ] फलक, काठ आदि का  
 तक्ता; 'अवेसिणो फलिहा' (पाय), 'नायो-  
 वगरणसुवाणं कवलियाफलिहपुत्थियाइणं'  
 (आप ८) ।

फलिह पुंन [ स्फटिक ] आकाश (भग २०,  
 २) ।

फलिह न [ दे ] कपास का टेंटा, टेंटा या  
 डेढ़ी (अणु ३५ टी) ।

फलिहंस पुं [ फलिहंसक ] वृक्ष-विशेष (दे  
 ४, १२) ।

फलिहा वी [ परिखा ] खाई, किले या नगर  
 के चारों ओर की नहर (औप; हे १, २३२;  
 कुमा) ।

फलिहि देवो परिहि (प्राक १५) ।

फलिही देवो फलही = दे (अणु ३५ टी) ।

फली वी [ फली ] काठ आदि की छोटी  
 तरती; 'ततो चंदणफलीउ मणियहट्ठुम्मि  
 विक्किअं कट्ठवि (सुपा ३८५) ।

फलोवयुं वि [ फलोपग ] फल-प्राप्त, फल-  
 फलोवां ? महित (ठा ३, १ पत्र—११३) ।

फलय वि [ फलय ] सूते का यज्ञ, सूती कपड़ा  
 (बृह १) ।

फळयीह सग [ लभ ] कथेट नाम प्राप्त  
 करना, गुजराती में 'फावतु' । फळोहामा  
 (बृह १) । फळ (दश० अगस्त्य० सु०  
 ३०३) ।

फसल वि [ दि ] ? सार, चित्तव्यवस्था; 'फसलं  
 सवलं सारं किन्मीरं चित्तलं च योगिल्लं'  
 (पाय; दे ६, ८७) । २ स्वात्मक (दे ६, ८७) ।

फसलाणिअ } वि [ दि ] कृत-विभूष, जिसने  
 फसलिअ } विभूषा की हो वह, श्रद्धारित्त  
 (दे ६, ८३); 'फसलियाणि कुंकुमराणु'  
 (स ३६०) ।

फसुल वि [ दि ] मुक्त (दे ६, ८२) ।

फाइ वी [ स्फाति ] वृद्धि (औप ४७) ।

फाईकय वि [ स्फोतीकृत ] ? फैलाया हुआ ।  
 २ प्रसिद्ध किया हुआ; 'वसंसेत्थियं पणोयं  
 फाईकयमएणमएणेइ' (विसे २५०७) ।

फागुण देवो फग्गुण (पि ६२) ।

फाड सक [ पाटय, स्फाटय ] फाड़ना ।  
 फाडेइ (हे १, १६८; २३२) । वड, फाडंत  
 (कुमा) ।

फाडिय वि [ फाटित, स्फाटित ] विदारित  
 (भवि) ।

फाणिअ पुंन [ फाणित ] ? गुड़; 'फाणियो  
 गुडो मएणति' (निउ ४) । २ गुड़ का  
 विकार-विशेष, आद्र गुड़, पानी से द्रावित  
 गुड़ (औप; कस; पिड २३६; ६२५; पव  
 ४) । ३ क्वाय (पएण १७—पत्र ५३०) ।

फाय वि [ स्फात ] ? वृद्ध । २ विस्तीर्ण । ३  
 ह्यात (विसे २५०७) ।

फार वि [ स्फार ] ? प्रचुर, बहुत; 'फारफल-  
 भारमज्जिरसाहासयसंकुलो महासाही' (धर्मवि  
 ५५) । २ विशाल, विपुल । ३ विस्तृत;

फेला हुमा (सुर २, २३६; काप्र १७०; सुपा १६४; कुप्र ५१)।

फारक वि [दे. स्फारक] स्फरकात्र को धारण करनेवाला, 'तं नासंतं दंष्टुं फारकका नमुडवयणयो दुक्का' (वर्मवि ८०)।

फारुसिय न [पारुष्य] पल्पता, कठोरता, कर्कशता: 'फारुसियं समाइयति' (आचा)।

फाल देखो °फाल।

फाल देखो फाड। फालेइ (हे १, १६८; २३२)। क्वक. फालिज्जंत, फालिज्जमाण (गा १५३; सम्मत १७४)। संक. फालेऊण (गा ४८६)।

फाल पुंन [फाल] १ लोहमय कुश, एक प्रकार की लोहे की लम्बी कील (उवा)। २ फाल से की जाती एक प्रकार की दिव्य-परीक्षा, शपथ-विशेष (सुपा १८६)। ३ फलांग, लांफ; 'दीवि व्व विहलफालो' (कुप्र १२)।

फालण न [पाटन, स्फाटन] विदारण, "खोणी किं न सहेदि सीरमुहयो तं तारिखं फालणं" (रंभा; सम १२५)।

फालण देखो °फालण।

फाला बी [फाला] फलाङ्ग, लांफ (कुप्र २७८; कुलक ३२)।

फालि बी [दे. फालि] १ फली, छोटी, फलियां २ शाखा "सिवलिफालिव्व अग्गिणा दड्ढो" (संवा ८५)। ३ फांक, टुकड़ा "नागवल्लीदलपुगीफलफालिपमुह—" (रयण ५५)।

फालिअ वि [पाटित, स्फाटित] विदारित (कुमा; परह १, १—पत्र; पउम ८२, ३१; औप)।

फालिअ न [दे. फालिक] देश-विशेष में होता वक्त्र-विशेष, "अमिलाणि वा गजलाणि वा फालियाणि वा कायहाणि वा (आचा २, ५, १, ७)।

फालिअ } पुं [स्फाटिक] १ रत्न-विशेष  
फालिग } (कप)। २ वि. स्फटिक-रत्न का  
फालिह } (पि २२६; उप ६८६; सुपा ८८)।

फालिहद्द पुं [पारिभद्र] १ फरहद का पेड़। २ देवदारु का पेड़। ३ निम्ब का पेड़ (१; ३३२)।

फास सक [स्पृश, स्पर्शय] १ स्पर्श करना, छूना। २ पालन करना। फासइ, फासेइ (हे ४, १८२; भग)। कर्म, फासिज्ज (कुमा)। वक्त्र. फासंत, फासयंत (पंचा १०, ३५ परह २, ३—पत्र १२३)। क्वक. फासा-इज्जमाण (भग—अं)। संक. फासइत्ता, फासित्ता (उत्त २६, १; सुख २६, १; कप; भग)।

फास पुंन [स्पर्श] १ स्पर्श, छूना (भग; प्रासू १०४)। २ ग्रह-विशेष, ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)। ३ दुःख-विशेष, "एयाइं फासाइं फुसंति वालं" (सुअ १, ५, २, २२)। ४ शब्द आदि विषय (उत्त ४, ११)। ५ स्पर्श इन्द्रिय, त्वचा (भग)। ६ रोग। ७ ग्रहण। ८ युद्ध, लड़ाई। ९ युग चरु जासूस। १० वायु, पवन। ११ दान। १२ 'क' से लेकर 'म' तक के अक्षर। १३ वि. स्पर्श करनेवाला (हे २, ६२)। °कीव पुं [°क्लीव] क्लीव का एक भेद (निच्च ४)। °णाम, °नाम न [°नामन्] कर्म-विशेष, कर्कश आदि स्पर्श का कारणभूत कर्म (राज; सम ६७)। °मंत वि [°मत्] स्पर्शवाला (ठा ५, ३; भग)। °मय वि [°मय] स्पर्श-मय, स्पर्श से निवृत्त; 'फासा-मयाओ सोवखाओ' (ठा १०)।

फासग वि [स्पर्शक] स्पर्श करनेवाला (अज्क १०४)।

फासण न [स्पर्शन] १ स्पर्श-क्रिया (आ १६)। २ स्पर्श-न्द्रिय, त्वचा (पव ६७)।

फासणया } बी [स्पर्शना] १ स्पर्श-क्रिया  
फासणा } (ठा ६; स १५६; जीवस १८१)। २ प्राप्ति (राज)।

फासिअ वि [स्पृष्ट] १ छुआ हुआ (नव ४१; विते २७८३)। २ प्राप्त; 'उचिए काले विहिणा पत्तं जं फासियं तयं भणियं' (पव ४)।

फासिअ वि [स्पर्शिक] स्पर्श करनेवाला (विते १००१)।

फासिअ वि [स्पर्शित] १ स्पर्श-युक्त, स्पृष्ट। २ प्राप्त (पव ४—गाया २१२)।

फासिदिय न [स्पर्शेन्द्रिय] त्वगिन्द्रिय (भग; गाया १, १७)।

फासु } वि [प्रासु, °क] अचेतन, जीव-  
फासुअ } रहित, निर्जीव, अचित्त वस्तु (भग;  
फासुग } पंचा १०, ६; औप; उवा; गाया १, ५; पउम ८२, ५)।

फिक्कर अक [फित् + कृ] प्रेत—पिशाच का चिल्लाना; 'तह फिक्करंति पेया' (सुपा ४६२)।

फिक्कि पुंत्री [दे] हर्ष, खुशी (दे ६, ८३)।

फिज न [दे. स्फिच्] नितम्ब, चूतर, जंघा का उपरि-भाग (सुख ८, १३)।

फिट्ट अक [अंश] १ नीचे गिरना। २ हटना, भौंगना। ३ ध्वस्त होना। ४ पलायन करना, भागना। फिट्टइ (हे ४, १७७; प्राकृ ७६; गा १८३; चेइय ५८७), फिट्टई (उत्त २०, ३०), फिट्टंति (सिरि १२६३)। भवि. फिट्टिहिइं, फिट्टिहिसि (कुप्र १६५; गा ७६८)।

फिट्ट वि [अष्ट] विनष्ट; 'पाणिएण तएह व्विअ न फिट्टा' (गा ६३; भवि)।

फिट्टा बी [दे] १ मार्ग, रास्ता; 'ता फिट्टाए मिलियं कुट्टियनरपेडियं एणं' (सिरि २६६)। २ प्रणाम-विशेष, मार्ग में किया जाता प्रणाम (गुमा १)। °मित्त पुंन [°मित्र] मार्ग में मिलने पर प्रणाम करने तक की अवधिवाली मित्रतावाला (सुपा १८६)।

फिड देखो फिट्ट। फिडइ (हे ४, १७७)।

फिडिअ वि [अष्ट, स्फिटित] १ अंश-प्राप्त, नष्ट, च्युत (शोध ७, १११; ११२; से ४, ५४; ६४)। २ अतिक्रान्त, उल्लंघित (शोधभा १७४; औप)।

फिडु वि [दे] वामन (दे ६, ८४)।

फिप्प वि [दे] कृत्रिम, बनावटी (दे ६, ८३)।

फिप्फिस न [दे] अन्न—आत स्थित मांस-विशेष, फेफड़ा (सुअनि ७२; परह १, १)।

फिर सक [गम्] फिरना, चलना। वक्त्र. फिरंत (वर्मवि ८१)।

फिरक पुंन [दे] खाली गाड़ी, भार ढोले-  
वाली खाली गाड़ी; 'समन्विता दुवि वसहा  
सगडं कड्ढंति जजलभरियंति । जटुवि निनि-  
श्रचित्ता फिरककुनावि तम्मंति' (सुपा  
४२४) ।

फिरिय वि [गत] गया हुआ,

'भोवणवालएहेउं पुरिखा इह-

केवि अगगयो फिरिया ।

जं सुम्मइ आसन्तो

सुन्नेवि हु एस संवरवो'

(धर्मवि १३६) ।

फिलिअ देखो फिडिअ (से ८, ६८) ।

फिल्लुस अक [दे] फिल्लना, सिल्लकना,  
गिरना । वक. 'सेवालियभूमितले फिल्लुस-  
माणा य धामयानम्मि' (सुर २, १०५) ।  
देखो फेल्लुस ।

फोअ देखो फाय (सुप्र २, ७, १) ।

फोणिया ली [दे] एक जात की मोठाई,  
युजराती में 'फोणो'; (सम्मत्त ५७) ।

फुंका ली [दे] फूंक, मुंह से हवा निकालना  
(मोह ६७) ।

फुंकार पुं [फुंकार] फुंकार, कुपित सप  
आदि की आवाज (सुर २, २३७) ।

फुंटा ली [दे] केश-वन्य (दे ६, ८४) ।

फुंद् देखो फंद = स्पन्द । फुंद्इ (से १५, ७७) ।

फुंफुमा ली [दे] करोपाणि, वनकण्डे  
फुंफुआ } की आग (पात्र: दे ६, ८४; तंदु  
फुंफुगा } ४५; जीव २; वृह १; कम्म १,  
२२) ।

फुंफुमा ली [दे] १ करोपाणि, अहवा उज्जड  
निहुयं निद्धमं फुंफुमं व्व चिरमेसो' (उप  
७२८ टी) । २ कचवर-बहि, कूड़ा-करकट  
की आग (सुख १, ८) ।

फुंफुल } सक [दे] १ उल्पाटन करना ।  
फुंफुल } २ कहना । फुंफुलइ (हे २, १७४) ।

फुंस सक [मृज्, प्र+उज्ज्] पांछना;  
साफ करना । फुंसदि (प्राक ६३) ।

फुंसण देखो फासण (उप पृ ३४) ।

फुंक अक [फून् + क्] १ फुंकारना, फू  
फू आवाज करना । २ सक. मुंह से हवा  
निकालना, फूंकना । फुंकइ (पिंग) । वक.  
फुंकत (गा १७६); फुंकिजंत (अ) (हे  
४, ४२२) ।

फुंका ली [दे] १ मिय्या (दे ६, ८३) । २  
फूंक (कुप्र १५०) ।

फुंकार पुं [फूंकार] फुंकार, फूं फूं की  
आवाज (कुप्र ५८; उण) ।

फुंकिय वि [फूत्कृत] फुंकारा हुमा (भाव  
४) ।

फुंकी ली [दे] रजकी, बोधिन (दे ६, ८४) ।

फुंग लीन [दे. स्फिच्] शरीर का प्रथम-  
विशेष, कटि-प्रोथ (सुप्रनि ७६) ।

फुंगाफुंग वि [दे] विकीर्ण रोगवाला,  
परस्पर असंबद्ध—विखरे हुए केशवाला; 'तस्त  
भुमगाग्रो फुंगफुंगाग्रो' (उवा) ।

फुट } अक [स्फुट्, अंश] १ विकसना,  
फुट्ट } लोलना । २ प्रकट होना । ३ फूटना,  
फटना, टूटना । ४ नष्ट होना । फुटइ, फुट्टइ,  
फुट्टइ, फुट्टउ (संति ३६; प्राक ६६; हे ४,  
१७७; २३१; उव; भवि; पिंग; गा २२८) ।

भवि. 'फुट्टिस्सइ बोहित्यं महिलाजणकहियमंतं  
वा' (धर्मवि १३), फुट्टिहिइ (पि ५२६) । वक.  
फुट्टंत, फुट्टमाण (पएह १, ३; गा २०४;  
सुर ४, १५१; याया १, १—पत्र ३६) ।

फुट्ट वि [स्फुटित, भ्रष्ट] १ फूटा हुआ, टूटा  
हुआ, विदीर्ण (उप ७२८ टी; सम्मत १४५;  
सुर २, ६०; ३, २४३; १३; २१०) । २  
भ्रष्ट, पतित (कुमा) । ३ विनष्ट; 'फुट्टहडा-  
हडसीसं' (याया १, १६; विपा १, १) ।

फुट्टण न [स्फुटन] १ फूटना, टूटना (कुप्र  
४१७) । २ वि. फूटनेवाला, विदीर्ण होनेवाला  
(हे ४, ४२२) ।

फुट्टिअ वि [स्फुटित] विदारित, 'फुट्टिअमोहो'  
(कुमा ७, ६४) ।

फुट्टिर वि [स्फुटित्] फूटनेवाला (सण) ।

फुट्ट देखो पुट्ट = स्पृष्ट (पि ३११) ।

फुड देखो फुट्ट = स्फुट्, अंश । फुडइ (हे ४,  
१७७; २३१; प्राक ६६); 'फुडंति सव्वंग-  
संघोओ' (उप ७२८ टी) । वक. फुडमाण  
(सुर ३, २४३) ।

फुड देखो पुट्ट = स्पृष्ट (पएण ३६; ठा ७—  
पत्र ३८३; जीवस २००; भग) ।

फुड वि [स्फुट] स्पष्ट, व्यक्त, साफ, विशद  
(पात्र; हे ४, २५८; उवा) ।

फुडण न [स्फुटन] टूटना, संपिष्ट होना  
(पएह १, १—पत्र २३) ।

फुडा ली [स्फुटा] प्रतिपादनात्मक महोत्सव  
की एक पटरानी, इन्द्राणी-विशेष (ठा ४,  
१; इक) ।

फुडा ली [फटा] चांप की फन, 'उपपडु-  
उफुटिलजजिलकम्मवियउफुडाओवकरणवच्छे'  
(उवा) ।

फुडिअ वि [स्फुटित] १ विकसित, चिला  
हुमा (पात्र; गा ३६०) । २ फूटा हुआ,  
विदीर्ण (स ३८१) । ३ विकृत (पएह १,  
२—पत्र ४०) ।

फुडिअ (अप) देखो फुरिअ (भवि) ।

फुडिआ ली [स्फोटिका] छोटा कोड़ा,  
कुनमी (सुपा १३८) ।

फुडु देखो फुट्ट । फुडुइ (पट्ट) ।

फुड वि [दे. स्पृष्ट] हुमा हुआ (पव १५८  
टी; कम्म ५, ८५ टी) ।

फुफुस न [दे] उदरवर्ती अन्न-विशेष,  
फेफड़ा (सुप्रनि ७३; पसन २६, ५४) ।

फुम सक [अम्] अमण करना । फुमइ  
(हे ४, १६१) । प्रयो. फुमावइ (कुमा) ।

फुम सक [दे. फून् + क्] फूंक मारना,  
मुंह से हवा करना । फुमेजा (दस ४, १०) ।  
वक. फुमंत (दस ४, १०) । प्रयो. फुमावेजा  
(दस ४, १०) ।

फुर अक [स्फुर] १ फरकना, हिलना ।  
२ तड़कड़ना । ३ विकसना, लोलना । ४  
प्रकाशित होना, प्रकट होना; 'फुरइ अ  
सीताइ तक्खणं वामच्छं' (से १५, ७६;  
पिंग) । वक. फुरंत, फुरमाण (गा १६२;  
सुर २, २२१; महा; पिंग; से ६, २५; १२,  
२६) । संक. फुरित्ता (ठा ७) ।

फुर सक [अप + ह्] अपहरण करना,  
छीनना । प्रयो. फुराविति (वव ३) ।

फुर पुं [स्फुर] शत्रु-विशेष; फुरफलगावरण-  
गहिय—' (पएह १, ३—पत्र ४६) ।

फुर (अप) देखो फुड = स्फुट (पिंग) ।

फुरण न [स्फुरण] १ फरकना, कुछ हिलना,  
ईपव कम्पन; 'जं पुण अचिच्छफुरणं मह होहो  
भारिया तेण' (सुर १३, १२७) । २ स्फूर्ति  
(सुपा ६; वजा ३४; सम्मत १६१) ।

फुरफुर अक [पोस्फुराय्] बूब कांपना, थरथराना, तड़फड़ाना। फुरफुरेजा (महानि १)। वक्र. फुरफुरंत, फुरफुरेत (सुर १४, २३३; स ६६६; २५६)।

फुरिअ वि [स्फुरित] १ कम्पित, हिला हुआ, फरका हुआ, चलित (दे ६, ८४; सुर ५, २२६; गा १३७)। २ दीप्त (दे ६, ८४)।

फुरिअ वि [दे] निन्दित (दे ६, ८४)।

फुरफुर देखो फुरफुर। वक्र. फुरफुरंत, फुरफुरेत (परह १, ३; पिड ५६०; सुर ७, २३३; साया १, ८—पत्र १३३)।

फुल देखो फुड = स्फुट्। फुलइ (नाट)। फुले (अप) (पिंग)।

फुल (अप) देखो फुर = स्फुर। फुला (पिंग)।

फुल (अप) देखो फुड = स्फुट (पिंग)।

फुल (अप) देखो फुल = फुल (पिंग)।

फुलिअ देखो फुडिअ = स्फुटित (से ५, ३०)।

फुलिअ (अप) देखो फुलिअ (पिंग)।

फुलिग पुं [स्फुलिङ्ग] अग्नि-कण (साया १, १; दे ६, १३५; महा)।

फुल अक [फुल्ल] फूलना, पुष्प-युक्त होना, विकसना। फुलइ, फुलप, फुल्लेइ (रंभा; सम्मत १४०), फुल्लति (हे २, २६)। भवि. फुलिहिंसि (गा ८०२)।

फुल्ल देखो क्रम = क्रम्। फुल्लइ (वात्वा १४६)।

फुल्ल न [फुल्ल] १ फूल, पुष्प (कुमा; बर्मवि २०; सम्मत १४३; वसनि १)। २ फूला हुआ, पुष्पित (भग; साया १, १—पत्र १८; कुमा)। ३ मालिया बी [मालिका] फूल बेचनेवाली, मालाकार की बी. मालिन (सुर ३, ७४)। ४ वल्लि बी [वल्लि] पुष्प-प्रधान लता (साया १, १)।

फुल्लधय पुं [फुल्लन्धय, पुष्पन्धय] अमर, भँवरा (उप ६८६ टी)।

फुल्लधुअ पुं [दे] अमर, भौरा (दे, ६, ८५; पात्र; कुमा)।

फुल्लग न [फुल्लक] पुष्प की आकृतिवाला ललाट का आभूषण (श्रीप)।

फुल्लण न [फुल्लन] विकास (वज्जा १५२)।

फुल्लया बी [फुल्ला, पुष्पा] बल्ली-विशेष, पुष्पाह्ला; शतपुष्पा, सोया का गाछ; 'दहफुल्लय-

कोगलिमां (१ मो) गली य तह अक्खवोदीया' (परह १—पत्र ३३)।

फुल्लवड न [दे] पुष्प-विशेष, मदिरा-वामक फूल (कुप्र ४५३)।

फुल्लविय } वि [फुल्लित] फुलाया हुआ  
फुल्लविय } (सम्मत् १४०; विक्र २३)।

फुल्लिअ वि [फुल्लित] पुष्पित, विकसित (अंत १२; स ३०३; सम्मत १४०; २२७)।

फुल्लिम पुं बी [फुल्लिमा] विकास, फूलन; 'अच्छउ ता फलकाले फुल्लिमसमए

वि कालिमा वयणे।

इय कलिउं व पलासो चत्तो

पत्तेहिं किविणी व' (सुर ३, ४४)।

फुल्लिर वि [फुल्लित्] फूलनेवाला, प्रफुल्ल; 'हिययणं दणचंदणफुल्लिरफुल्लेहिं' (सम्मत् २१४)।

फुस सक [भ्रम्] भ्रमण करना। फुसइ (हे ४, १६१)।

फुस सक [मृज्] मार्जन करना, पोंछना, साफ करना। फुसइ (हे ४, १०५; भवि)।

कर्म. फुसिअइ, फुसिअउ (कुमा; सुपा १२४)। वक्र. फुसंत, फुसमाण (भवि; कुप्र २८५)।

संक्र. फुसिअण (महा)।

फुस अक [स्फुश] स्पर्श करना, छूना।

फुसइ (भग; श्रीप; उत २, ६), फुसंति (विसे २०२३), फुसंतु (भग)। वक्र. फुसंत, फुसमाण (श्रीव ३८६; भग)। संक्र.

फुसिअ, फुसित्ता, फुसित्ताणं (पंच २, ३८; भग; श्रीप; पि ५८३)। क. फुस्स (ठा ३, २)।

फुसण न [स्पर्शण] स्पर्श-क्रिया (भग; सुपा ५)।

फुसणा बी [स्पर्शणा] ऊपर देखो (विसे ४३२; नव ३२)।

फुसिअ देखो फुस = स्फुश।

फुसिअ वि [स्फुष्ट] हुआ हुआ (जीवस १६६)।

फुसिअ वि [मृष्ट] पोंछा हुआ (उप पृ ३४५ सुपा २११; कुप्र २३१)।

फुसिअ पुं न [पृपत्त] १ विन्दु, बुन्द, बूँद (आवा; कप्प)। २ विन्दु-पात (सम ६०)।

फुसिअ वि [भ्रमित] घुमाया हुआ (कुमा ७, ४)।

फुसिआ बी [दे] बल्ली-विशेष, 'सेसविदुगोत्तफुसिया' (परण १—पत्र ३३)।

फुस्स देखो फुस = स्फुश।

फूअ पुं [दे] लोहकार, लोहार (दे ६, ८५)।

फूम देखो फुम। वक्र. फूमंत (राज)।

फूमिय वि [फूत्कृत] फूँका हुआ (उप पृ १४१)।

फूल देखो फुल = फुल्ल; 'फलफूलछल्लिकट्टा मूलगपत्ताणि वीयाणि' (जी १३)।

फेकार पुं [फेत्कार] १ शृगाल की आवाज (सुर ६, २०४)। २ आवाज, चिल्लाहट (कप्प)।

फेकारिय न [फेत्कारित] ऊपर देखो (स ३७०)।

फेड सक [स्फेटय्] १ विनाश करना। २ दूर हटाना। ३ परित्याग करना। ४ उद्घाटन करना। फेडइ, फेडेइ; फेडंति (उव; हे ४, ३५८; संबोध ५४; स ४१४)। कर्म. फेडिअइ (भवि)।

फेडण न [स्फेटन] १ विनाश। २ अपनयन (पव १३५)।

फेडणया बी [स्फेटना] ऊपर देखो (पिड ३८७)।

फेडावणिय न [दे] विवाह-समय की एक रीति, वधु को प्रथम बार लजा-परिहार के वक्त दिया जाता उपहार (स ७८)।

फेडिअ वि [स्फेटित] १ नष्ट किया हुआ, विनाशित (पउम ३६, २२)। २ त्याजित (तिरि ६५५)। ३ अपनीत (श्रीवभा ४२)। ४ उद्घाटित (स ७८)।

फेण पुं [फेण, फेन] फेण, भाग, जल-मल, पानी आदि के ऊपर का बुद्बुदाकार पदार्थ (पात्र; साया १, १—पत्र ६२; कप्प)।

मालिणी बी [मालिनी] नदी-विशेष (ठा २, ३; इक)।

फेणबंध } पुं [दे] बन्ध (दे ६, ८५)।

फेणवड } फेणय अक [फेणाय्, फेनाय्] फेण—

फेन का बमन करना. भाग निकालना। वक्र. फेणायमाण (प्रयो ७४)।

फेफ्फस) न. [दि] देखो फिफिफस,  
फेफस ] फुफ्फुस (राज; तंडु ३६) ।

फेरण न [दि] फेरना, घुमाना; 'घुंफणफेरण-  
सुंकारणहि' (सुर २, ८) ।

फेळ सक [क्षिप्] १ फेंकना । २ दूर  
करना । फेळदि (शौ) (नाट) । चंछ.  
फेळिअ (नाट) ।

फेळा वी [दि] झूठन-कंठन, जूठन, भोजन  
से वना-बुचा, उच्छिष्टः

'तस्स य अणुं कपाए देवी

दासी य तम्मि कूवन्मि ।

निचं विवन्ति फेळं तीए

सो जियइ सुणउच्च ।'

'दुग्धकूववासो गन्धो,

जणणीइ चावियरसेहि ।

जं गन्धपोसणं पुण तं फेलाहारसंकासं ।'

(धर्मवि १४६) ।

फेळया वी [दि] भानुलानी, मामी (दे ६,  
८५) ।

फेळ पुं [दि] दरिद्र, निर्धन (दे ६, ८५) ।

फेळुस सक [दि] फिसलना; खिसकना,  
खिसककर गिरना । फेळुसइ (दे ६, ८६) ।

चंछ. फेळुसिऊण (दे ६, ८६; स ३५५) ।

फेळुसण न [दि] १ फिसलन, पतन । २  
पिच्छिल जमीन, वह जगह जहाँ पवि फिसल  
पड़े (दे ६, ८६) ।

फेहसण देखो फेळुसण (वव ४, टी) ।

फेस पुं [दि] १ त्रास, डर । २ सद्भाव (दे  
६, ८७) ।

फोअ पुं [दि] उद्गम (दे ६, ८६) ।

फोइअय वि [दि] १ मुक्त । २ विस्तारित  
(दे ६, ८७) ।

फोफा वी [दि] डराने की आवाज, भयोत्पादक  
शब्द (दे ६, ८६) ।

फोड सक [स्फोट्य] १ फोड़ना, विदारण  
करना । २ राई आदि से शाक आदि को  
वधारना । फोडेअ (कुप्र ६७) । वक्. फोडेअत,  
फोडेमाण (सुपा २०१; ५६३; श्रौप) ।

फोड पुं [स्फोट] १ फोड़ा, वण-विशेष (ठा  
१०—पत्र ५२०) । २ वण-विशेष, शब्द-  
भेद (राज) । ३ वि. भसक; 'बहुफोडो'  
(श्रौघना १६१) ।

फोडअ (शौ) पुं [स्फोटक] ऊपर देखो (प्राक्  
८६) ।

फोडण न [स्फोटन] १ विदारण (पव ६  
टी; गडड) । २ राई आदि से शाक आदि को  
वधारना (पिंड २५०) । ३ राई आदि  
संस्कारक पदार्थ (पिंड २५५) । ४ वि.  
फोड़नेवाला, विदारण करनेवाला; 'कायर-  
जणहियफोडणं' (खाया १, ८); 'अम्हं  
मअणसराहअहिअअवणफाडणं गोअं' (सा  
३८१) ।

फोडव देखो फोडअ (पठम ६३, २६) ।

फोडाव सक [स्फोट्य] १ फोड़वाना ।  
तोड़वाना । २ खुलवाना । चंछ. फोडाविऊण  
(स ४६०) ।

फोडाविय वि [स्फोटित] १ तोड़वाया  
हुआ । २ खुलवाया हुआ; 'फोडाविया संपुडा'  
(स ४६०) ।

फोडि वी [स्फोटि] विदारण, भेदन; 'भाडो-  
फोडोसु वजए कम्मं' (पडि) । 'कम्म न  
[कम्मं] १ जमीन आदि का विदारण करने  
का काम, हल आदि से भूमि-दारण, कूप,  
तड़ाग आदि खोदने का काम । २ उक्त काम  
कर आजोविका चलाना (पडि) ।

फोडिअ वि [स्फोटित] १ फोड़ा हुआ,  
विदारित (खाया १, ७; स ४७२) । २  
राई आदि से वधारा हुआ (वव १) ।

फोडिअय वि [दि. स्फोटित, क] राई से  
वधारा हुआ शाकादि (दे ६, ८८) ।

फोडिअय न [दि] रात के समय जंगल में  
सिंहादि से रक्षा का एक प्रकार (दे ६, ८८) ।

फोडिया वी [स्फोटिका] छोटा फोड़ा (उप  
७६८ टी) ।

फोडी वी [स्फोटी, स्फौटी] देखो फोडि  
(उवा: पव ६; पडि) ।

फोफ्फस न [दि] शरीर का अवयव-विशेष,  
'कालिज्जयअंतपित्तजरहियफोफ्फसफेफसपि-  
लिहोदर—' (तंडु ३६) ।

फोफल न [दि] गन्ध-द्रव्य विशेष, एक प्रकार  
की श्रौपवि, 'महुअविरेयणमेसो कायव्वो  
फोफलाइदव्वेहि' (भत्त ४२) ।

फोफस देखो फोफ्फस (पएह १, १—  
पत्र ८) ।

फोरण न [स्फोरण] निरन्तर प्रवृत्तन,  
'विसयम्मि अपत्तेवि हु रियसत्तिफोरणेण  
फलसिद्धो' (उवर ७४) ।

फोरविअ वि [स्फोरित] निरन्तर प्रवृत्त  
किया हुआ, 'तिहिपि नियनियसत्तो फोरवीया'  
(सम्मत्त २२७; हम्मोर १४) ।

फोस देखो फुस = सृष्ट; 'तन्नं फोसंति  
जणं' (जीवस १६६) ।

फोस पुं [दि] उद्गम (दे ६, ८६) ।

फोस पुं [दि. पोस] अफान-देश, युदा  
(तंडु २०) ।

फोसणा वी [स्पर्शना] स्पर्श-क्रिया (जीवस  
१६६) ।

॥ इअ सिरिपाइअसद्महण्णवो फअराइसइसंकलणो  
अट्टावीसइमो तरंगो समत्तो ॥

व

व पुं [व] ओष्ठ-त्यानीय व्यञ्जन वणं-विशेष (प्राप) ।

वअर (शौ) न [वदर] १ फल-विशेष; वेर । २ कपास का बीज (प्राक् ८३) ।

वइट्ट (प्रप) वि [उपविष्ट] बैठा हुआ (हे ४, ४४४; भवि) ।

वइल्ल पुं [दे] वैल, वरव, वृषभ (दे ६, ६१; गा २३८; प्राक् ३८; हे २, १७४; धर्मवि ३; श्रावक २५८ टी; ध्रु १५३; प्रासू ५५; कुप्र २७६; तो १५; वे ६; कण्ठ) ।

वइस (प्रप) अक [उप + विश] बैठना; गुजराती में 'वेसतु' । वइसइ (भवि) ।

वइसणय (अप) न [उपवेशनक] आसन (तो ७) ।

वइसार (अप) सक [उप + वेशय] बैठाना । वइसारइ (भवि) ।

वइत्स देखो वइत्स (वि ३००) ।

वईस (अप) देखो वइस । वईसइ (भवि) ।

वईस (अप) न [उपवेश] बैठ, बैठन, बैठना; 'तोवि गोठुडा करावित्रा मुढए उठु-वईस' (हे ४, ४२३) ।

वउणी वी [दे] कार्पासी, कर्पास-वल्ली (दे ३, ५७) ।

वउल पुं [वकुल] १ वृक्ष-विशेष, मौलसरी का पेड़ (सम १५२; पात्र; णया १, ६) । २ वकुल का पुष्प (सि १, ५६) । 'सिरी वी [श्री] १ वकुल का पेड़ । २ वकुल का पुष्प (श्रा १२) ।

वउस पुं [वकुश] १ अनायं-देश-विशेष । २ पुंजी. उच देश का निवासी (पएह १, १—पत्र १४) । वी. सी (णया १, १—पत्र ३७) । ३ वि. शवल, चितकवरा । ४ मलिन चरित्रवाला, शरीर के उपकरण और विभूषा आदि से संयम को मलिन करनेवाला (ठा ३, २; ५, ३; सुख ६, १), वी. 'तए एं सा मूमालिया अज्जा सरीरउसा जाया यावि होत्या' (णया १, १६) । ४ पुंन. मलिन संयम, शिथिल चारित्र-विशेष (सुख ६, १) ।

वउहारी वी [दे] बृहारी, संमाजंती, भाड़ू (दे ६, ६७) ।

वंग पुं [वङ्ग] १ भगवान् आदिनाय के एक पुत्र का नाम (तो १४) । २ देश-विशेष, बंगाल देश (उप ७६५; तो १४) । ३ वंग देश का राजा (पिग) ।

वंगल (अप) पुं [वङ्ग] वंग देश का राजा (पिग) ।

वंगाल पुं [वङ्गाल] बंगाल देश, 'बंगालदेस-वइणो तेणं तुह ससुरसस दिन्ना ह' (सुपा ३७७) ।

वंभ देखो वंभ (पि २६६) ।

वंडि पुं [दे] देखो वंदि = वन्दिन् (पड) ।

वंद न [दे] कैदी, कारा-बन्ध मनुष्य; 'वंदपि किपि' (स ४२१), 'वंदाइं गिन्हइ कयावि', छलेण गिन्हइ वंदाइ', 'वंदाएं मोयावणकए' (धर्मवि ३२); 'एणव्यवंदपगहियपहियकीरंत-कंठणएल्लसरा' (धर्मवि ५२) । 'गह पुं [ग्रह] कैदी रूप से पकड़ना; 'परदोहवट्ट-वाडणवंदंगहल्ललणएणमुहाई' (कुप्र ११३) ।

वंदण न [दे] कैदी (नंदोदिप० वैनयि की बुद्धि में १३ वां कथानक) ।

वंदि वी [वन्दि] देखो वंदी (हे १, १४२; २, १७६) ।

वंदि पुं [वन्दिन्] स्तुति-पाठक, मंगल-वंदिण ] पाठक, मागध; 'मंगलपाठयमागह-चारणवेआलिआ वंदी' (पात्र; उप ७२० टी; धर्मवि ३०), 'उद्दामसद्वदंदिणवंद्रसमुग्घुट्ट-नामाई' (स ५७६) ।

वंदिर न [दे] समुद्र-वाणिज्य-प्रधान नगर, वंदर (सिरी ४३३) ।

वंदी वी [वन्दी] १ हठ-हट वी, वंदी (दे २, ८४; गउउ १०५; ८४३) । २ कैद किया हुआ मनुष्य (गउउ ४२६; गा ११८) ।

वंदीकय वि [वन्दीकृत] कैद किया हुआ, बांध कर आनीत (गउउ) ।

वंदुरा वी [वन्दुरा] अश्व-शाला, गच्छ निहनेहि वंदुराओ, भूसेहि नुरए' (स ७२५) ।

बंध सक [वन्ध] १ बाँधना, नियन्त्रण करना । २ कर्मों का जीव-प्रदेशों के साथ संयोग करना । बंधइ (भग; महा; उव; हे १, १८७) । भूका. वंधिसु (पि ५१६) । कर्म. वंधिज्झइ, वज्झइ (हे ४, २४७), भवि. वंधिहइ, वज्झिहइ (हे ४, २४७) । वक्र. वंधंत, वंधमाण (कम्म २, ८; पएण २२) । संक्र. वंधइत्ता, वंधउं, वंधिऊण, वंधिऊणं, वंधित्ता, वंधित्तु (भग; पि ५१३; ५८५; ५८२) । ह्ठ. वंधेउं (हे १-१८१) । क. वंधियउव (पंच १, ३) । कवक्र. वज्झंत, वज्झमाण (सुपा १६८; कम्म १, ३५; श्रौप) ।

बंध पुं [दे] मृत्यु, नौकर (दे ६, ८८) ।

बंध पुं [वन्ध] १ कर्म-पुद्गलों का जीव-प्रदेशों के साथ दूध-पानी की तरह मिलना, जीव-कर्म-संयोग (आचा; कम्म १, १५; ३२) । २ वन्धन, नियन्त्रण, संयमन (श्रा १०; प्रासू १५३) । ३ छन्द-विशेष (पिग) । 'सामि वि [स्वामिन्] कर्म-वन्ध करने-वाला (कम्म ३, १; २४) ।

बंधई वी [वन्धकी] पुंरचली, असती वी (नाट—मालती १०६) ।

बंधग वि [वन्धक] १ बांधनेवाला । २ कर्म-वन्ध करनेवाला, आत्म-प्रदेश के साथ कर्म-पुद्गलों का संयोग करनेवाला (पंच ५, ८४; श्रावक ३०६; ३०७; पंचा १६, ४०, कम्म ६, ६) ।

बंधण न [वन्धन] १ बाँधने का—संश्लेष का साधन, जिससे बांधा जाय वह स्तिग्ध-तादि गुण (भग ८, ६—पत्र ३६४) । २ जो बांधा जाय वह । ३ कर्म, कर्म-पुद्गल । ४ कर्म-वन्ध का कारण (सुख १, १, १, १) । ५ संयमन, नियन्त्रण (प्रासू ३) । ६ नियन्त्रण का साधन, रज्जु आदि (उव) । ७ कर्म-विशेष, जिस कर्म के उदय से पूर्व-गृहीत कर्म-पुद्गलों के साथ गृह्यमाण कर्म-पुद्गलों का आपस में सम्बन्ध हो वह कर्म (कम्म १, २४; ३१; ३५; ३६; ३७) ।

बंधणया स्त्री [बन्धन] कवन (भग) ।  
 बंधणी स्त्री [बन्धनी] विद्या-विशेष (पउम  
 ७, १४१) ।  
 बंधय देखो बंधम (एदि ४२) ।  
 बंधव पुं [बान्धव] १ भाई, भ्राता । २  
 मित्र वयस्य, दोस्त । ३ नातेदार, संबन्धी,  
 नतेत । ४ माता । ५ पिता । ६ माता-पिता का  
 सम्बन्धी मामा, चाचा आदि (हे १; ३०;  
 प्रासू ७६; उक्त १८, १४) ।  
 बंधाप (अशो) सक [बन्धय] बंधाना,  
 बंधवाना । बंधापयति (पि ७) ।  
 बंधाविअ वि [बन्धित] बंधाया हुआ (सुपा  
 ३२५) ।  
 बंधिअ देखो बद्ध (सूय १, २, १, १८;  
 धर्मवि २३) ।  
 बंधु पुं [बन्धु] १ भाई, भ्राता । २ माता ।  
 ३ पिता । ४ मित्र, दोस्त । ५ स्वजन,  
 नातेदार, नतेत (कुमा; महा; प्रासू १०८;  
 सुपा १६८; २४१) । ६ छन्द-विशेष (पिग) ।  
 जीव पुं [जीव] वृक्ष-विशेष, दुपहरिया  
 का पेड़ (स्वप्न ६६; कुमा) । जीवग पुं  
 [जीवक] वही अर्थ (शाया १, १; कप्प;  
 भग) । दत्त पुं [दत्त] १ एक श्रेष्ठी का  
 नाम (महा) । २ एक जैन मुनि का नाम  
 (राज) । मई, वई स्त्री [मती] १  
 भगवान् मल्लिनाथ की मुख्य साध्वी का नाम  
 (शाया १, ८; पव ६; सम १५२) । २  
 स्वनाम-ध्यात स्त्री-विशेष (महा; राज) ।  
 सिरा स्त्री [श्री] श्रीदाम राजा की पत्नी  
 (विपा १, ६) ।  
 बंधुर वि [बन्धुर] १ सुन्दर, रम्य (पात्र) ।  
 २ नम्र, अयत्त (गउड २०५) ।  
 बंधुरिय वि [बन्धुरित] १ पिडोकरत (गउड  
 ३८३) । २ नम्रोभूत, नमा हुआ (गउड  
 ५५६) । ३ मुकुटित, मुकुटयुक्त । ४ विभूषित  
 (गउड ५३३) ।  
 बंधुल पुं [बन्धुल] वेरया-पुत्र, असती-पुत्र  
 (मृच्च २००) ।  
 बंधूय पुं [बन्धूक] वृक्ष-विशेष, दुपहरिया का  
 पेड़ (स ३१२) ।

बंधोल पुं [दे] मेलक, मेल, संगति (दे  
 ६, ८६; पड) ।

बंध पुं [ब्रह्मन्] १ ब्रह्मा, विवाता (उप  
 १०३१ टी; दे ६, २२; कुप्र २०३) । २ भगवान्  
 शान्तिनाथ का शासनाविष्ठायक यज्ञ (संति  
 ७) । ३ अण्काय का अघिष्ठायक देव (ठा ५,  
 १—पत्र २६२) । ४ पांचवें देवलोक का इन्द्र  
 (ठा २, ३—पत्र ८५) । ५ वारहवें ब्रह्मवर्ती  
 का पिता (सम १५२) । ६ द्वितीय बलदेव  
 और वासुदेव का पिता (सम १५२; ठा ६—  
 पत्र ४४७) । ७ ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध एक  
 योग (पउम १७, १०) । ८ ब्राह्मण, विप्र  
 (कुलक ३१) । ९ चक्रवर्ती राजा का एक  
 देव-कृत प्रासाद (उक्त १३, १३) । १० दिन  
 का नववां मुहूर्त (सम ५१) । ११ छन्द-  
 विशेष (पिग) । १२ ईपत्रागभारा पृथिवी  
 (सम २२) । १३ एक जैन मुनि का नाम  
 (कप्प) । १४ पुंन, एक विमानावास, देव-  
 विमान-विशेष (देवेन्द्र १३१; १३४; सम  
 १६) । १५ मोक्ष, अपवर्ग (सूय २, ६,  
 २०) । १६ ब्रह्मचर्य (सम १८; ओषभा  
 २) । १७ सत्य अनुष्ठान (सूय २, ५, १) ।  
 १८ निर्विकल्प सुख (आचा १, ३, १, २) ।  
 १९ योगशास्त्र-प्रसिद्ध दशम द्वार (कुमा) ।  
 कंत नं [कान्त] एक देव-विमान (सम  
 १६) । कूड पुं [कूट] १ महाविदेह वर्ष  
 का एक वक्षस्कार पर्वत (जं ४) । २ न, एक  
 देव-विमान (सम १६) । चरण न [चरण]  
 ब्रह्मचर्य (कुप्र १६१) । चारि वि  
 [चारिन्] १ ब्रह्मचर्य पालन करनेवाला  
 (शाया १, १; उवा । २ पुं, भगवान् पार्श्व  
 नाथ का एक गणवर—प्रमुख मुनि (ठा ८—  
 पत्र ४२६) । चेर, चेर न [चर्य] १  
 मैथुन-विरति (आचा; पएह २, ४; हे २,  
 ७४; कुमा; भग; सं ११; उज पृ ३४३) । २  
 जिनेन्द्र-शासन, जिन-प्रवचन (सूय २, ५,  
 १) । उमय न [ध्वज] एक देव-विमान  
 (सम १६) । दत्त पुं [दत्त] भारतवर्ष में  
 उत्पन्न वारहवां ब्रह्मवर्ती राजा (ठा २, ४;  
 सम १५२; उव) । द्वीप पुं [द्वीप] द्वीप-  
 विशेष (राज) । द्वीपिया स्त्री [द्वीपिका]  
 जैन-मुनि गण की एक शाखा (कप्प) । पपभ

न [प्रभ] एक देव-विमान (सम १६) ।  
 भूइ पुं [भूति] एक राजा, द्वितीय वासु-  
 देव का पिता (पउम २०, १८२) । चारि  
 देखो चारि (शाया १, १; सम १३; कप्प;  
 सुपा २७१; महा; राज) । स्त्री, णी (शाया  
 १, १४) । रुइ पुं [रुचि] स्वनाम-प्रसिद्ध  
 एक ब्राह्मण, नारद का पिता (पउम ११,  
 ५२) । लोस न [लोश्य] एक देव-विमान  
 (सम १६) । लोअ, लोण पुं [लोअ] एक  
 स्वर्ग, पांचवां देवलोक (भग; अनु; सम  
 १३) । लोणवडिसय न [लोकावतंसक]  
 एक देव-विमान (सम १७) । व, वंत वि  
 [वन्] ब्रह्मचर्यवाला (आचा) । वडिसय  
 पुं [वतंसक] सिद्ध-शिला, ईपत्रागभारा  
 पृथिवी (सम २२) । वण न [वर्ण]  
 एक देव-विमान (सम १६) । वय न  
 [व्रत] ब्रह्मचर्य (शाया १, १) । वि  
 वि [वित्] ब्रह्म का जानकार (आचा) ।  
 वय देखो वय (सं ५६; प्रासू १५६) ।  
 संति पुं [शान्ति] भगवान् महावीर का  
 शासन-यज्ञ (गण ११; ती १५) । सिग न  
 [शृङ्ग] एक देव-विमान (सम १६) ।  
 सिट्ट न [सूट] एक देव-विमान (सम  
 १६) । सुत्त न [सूत्र] उपवीत, यज्ञो-  
 पवीत (मोह ३०; सुख २, १३) । हिअ  
 पुं [हित] एक विमानावास, देव-विमान-  
 विशेष (देवेन्द्र १३४) । वित्त न [वर्त]  
 एक देव-विमान (सम १६) । देखो बंधाण,  
 बन्ह ।

बंधंड न [ब्रह्माण्ड] जगत्, संसार (गउड;  
 कुप्र ४; सुपा ३६८; ५६३) ।

बंधण पुं [ब्राह्मण] ब्राह्मण, विप्र (स २६०;  
 सुर २, १३०, सुपा १६८; हे ४, २८०;  
 महा) ।

बंधणिआ स्त्री [ब्राह्मणिका] पदवेन्द्रिय  
 जन्तु-विशेष (पुष्प २६७) ।

बंधणिआ } स्त्री [दे, ब्राह्मणिका] कीट-  
 बंधणी } विशेष (दे ६, ६०; पात्र; दे ८,  
 ६३; ७५) ।

बंधण } स्त्री [ब्राह्मण्य, ब्राह्मण्य, क]  
 बंधणय } ब्राह्मण का हित । २ ब्राह्मण-  
 संबन्धी । ३ न, ब्राह्मण-समूह । ४ ब्राह्मण-

धर्म; 'द्विनएणकज्जेतु सज्जो' (सम्मत १४०; कप्प; औप; पि २५०)।

वंभदीविग वि [ब्रह्मदीपिका] ब्रह्मदीपिका-शाखा में उत्पन्न (खंडि ५१)।

वंभदीविगा ली [ब्रह्मदीपिका] एक जैन-मुनि-शाखा (खंडि ५१)।

वंभलिज्ज न [ब्रह्मलीय] एक जैन मुनि-कुल (कप्प)।

वंभहर न [दे] कमल, पद्म (दे ६, ६१)।

वंभाण देखो वंभ (पउम ५, १२२)। °गच्छ पुं [°गच्छ] एक जैन-मुनि गच्छ (तो २८)।

वंभि } ली [ब्राह्मी] १ भगवान् ऋषभदेव  
वंभी } की एक पुत्री (कप्प; पउम ५, १२०; ठा ५, २; सम ६०)। २ लिपि-विशेष (सम ३५; भग)। ३ कल्प-विशेष (सुपा ३२४)।

४ सरस्वती देवी (सिरि ७६४)।

वंभुत्तर पुं [ब्रह्मोत्तर] एक विमानावास, देव-विमान-विशेष (वेवेन्द्र १३४)। °वडिसक न [°वतंसक] एक देव-विमान (सम १६)।

वंहि पुं [वर्हिन्] मयूर, मोर (उत्तर २६)।

वंहिण (अप) ऊपर देखो (पि ४०६)।

वक देखो वय (पएह १, १—पत्र ८)।

वकर न [दे. वर्कर] परिहास (दे ६, ८३; कुप्र १६७; कप्प)।

वक्खस न [दे] अन्न-विशेष, 'वक्खस' मुद्रमापा-दिनपिकानिपयत्तमल्ल' (सुख ८, १२; उत्त ८, १२)।

वग देखो वय (दे २, ६; कुप्र ६६)।

वगदादि पुं [वगदादि] देश-विशेष, वगदाद-देश; 'वगदादिविसयवसुहाहिवस्स खलीपना-मवेयस्स' (हम्मौर ३४)।

वगी ली [वर्गी] वगुली, वगुले की मादा (विपा १, ३; मोह ३७)।

वगगड पुं [दे] देश-विशेष (तो १५)।

वज्ज वि [वाह] बाहर का, बहिरङ्ग (पएह १, ३; प्रातु १७२)। °ओ अ [°तस्] बाह्य से, बहिरंग से; 'कि ते जुज्जेण वज्जप्रो' (आत्ता)।

वज्ज न [वन्ध] बन्धन, बांधने का वागुरा-आदि साधन, 'अह तं पवेज्ज वज्जं, अहे वज्जस्स वा षए' (सुप्र १, १, ३, ८)।

वज्ज वि [वद्ध] १ बन्धनाकार व्यञ्जित्यत, 'अह तं पवेज्ज वज्जं' (सुप्र १, १, ३, ८)।

२ वंधा हुआ (प्रति १५)।

वज्जंत } देखो वन्ध = वन्ध्।  
वज्जमाण }

वठर पुं [वठर] मूर्ख छात्र (कुप्र १६)।

वड (अप) वि [दे] वड़ा, महान् (पिग)। देखो वड्ड।

वडवड अक [वि + लप्] विलाप करना, 'वडवडाना। वडवडइ (पड्)।

वडहिला ली [दे] धुरा के मूल में दो जाती कील, कीलक-विशेष (सट्ठि ११६)।

वडिस देखो वलिस (हे १, २०२)।

वड्ड } पुं [वड्ड, क] लड्डका, डोकड़ा (उप  
वड्डअ } ७१३; सुपा २००)।

वड्डुवास [दे] देखो वड्डुवास (दे ७, ४७)।

वत्तीस } (अप) देखो वत्तीस (पिग)।  
वत्तिस }

वत्तीस लीन [द्वान्तिरान्] १ संख्या-विशेष, वत्तीस, ३२। २ जिनकी संख्या वत्तीस हों वे; 'वत्तीसं जोगसंगहा पत्तत्ता' (सम ५७; औप; उव; पिग)। ली. °सा (सम ५७)।

वत्तीसइ° ली. ऊपर देखो (सम ५७)। वड्डय न [°वड्डक] १ वत्तीस प्रकार रचनाओं से युक्त। २ वत्तीस पात्रों से निबद्ध (नाटक); 'वत्तीसइवड्डयहि नाडएहि' (एगाया १, १—पत्र ३६; विपा २, १ टी—पत्र १०४)।

°विह वि [°विध] वत्तीस प्रकार का (सम ५७)।

वत्तीसइम वि [द्वान्तिशत्तम] १ वत्तीसवाँ, ३२ वाँ (पउम ३२, ६७; पएण ३२)। २ न. पनरुह दिनों का लगातार उपवास (एगाया १, १)।

वत्तीसा देखो वत्तीस।

वत्तीसिया ली [द्वान्तिशिका] १ वत्तीस पद्यों का निबन्ध—ग्रन्थ (सम्मत १४४)।

२ एक प्रकार का नाप (अणु)।

वद्ध वि [वद्ध] १ वंधा हुआ, नियन्त्रित; 'वद्धं संदाणिएं निअल्लिएं च' (पात्र)। २ संछिद्र, संयुक्त (भग; पात्र)। ३ निबद्ध, रचित (आवम)। °फल, °फल पुं [°फल] १ करज का पेड़ (हे २, ६७)। २ वि.

फल-युक्त, फल-संपन्न (एगाया १, ७—पत्र ११६)।

वद्धग पुं [वद्धक] तूण-वाद्य विशेष (राय ४६)।

वद्धय पुं [दे] कान का एक आभूषण (दे ६, ८६)।

वद्धेहग } देखो वद्ध (अणु; महा)।  
वद्धेहय }

वप्प पुं [दे] १ सुभट, योद्धा (दे ६, ८८)। २ बाप, पिता (दे ६, ८८; दस ७, १८; स ५८; उप ३२० टी; मुर १, २२१; कुप्र ४३; जय; भवि; पिग)।

वप्पहट्टि पुं [वप्पभट्टि] एक सुविख्यात जैन आचार्य (विचार ५३३; तो ७)।

वप्पीह पुं [दे] पपीहा, चातक पक्षी (दे ६, ६०; स ६८६; पात्र; हे ४, ३८३)।

वप्पुड वि [दे] वेचारा, दीन, अनुकम्पनीय गुजराती में 'वापडु' (हे ४, ३८७; पिग)।

वप्फ पुं [वाष्प] १ भाफ, ऊष्मा; 'वप्फो' (हे २, ७०; पड्), 'वप्फ' (प्राक २३; विसे १५३५)। २ नेत्र-जल, श्रुत; 'वप्फं वाहो यनयएणज' (पात्र), 'वप्फज्जाउललोअणएहि' (स ५६१; स्वप्न ८५)।

वाष्फाउल वि [दे. वाष्पाकुल] अतिशय उष्ण (दे ६, ६२)।

वव्वर पुं [वव्वरी] १ अनार्य देश-विशेष (पउम ६८, ६५)। २ वि. वव्वर देश का निवासी (पएह १, १; पउम; ६६, ५५)। °कूल न [°कूल] वव्वर देश का किनारा (सिरि ४३०)।

वव्वरी ली [दे] केश-रचना (दे ६, ६०)।

वव्वरी ली [वव्वरी] वव्वर देश की ली (एगाया १, १; औप; इक)।

वव्वूल पुं [वव्वूल] वृक्ष-विशेष, वव्वूल का पेड़ (उप ८३३ टी; महा)।

वव्वु पुं [दे] वध, चर्म, चमड़े की रज्जु; 'वव्वो वव्वे' (दे ६, ८८); 'वव्वो वव्वो = (? वव्वो वव्वो)' (पात्र)।

वव्वभागम वि [वव्वभागम] बहु-श्रुत, शाखों का अच्छा जानकार (कत्)।



वल्भासा ली [दे] नवी-नेद, वह नदी जिसके पूर से भावित पानी में वान्य आदि बोया जाता हो (राज)।

वल्भिआयण न [वाभ्रव्यायन] गोत्र-विशेष (इक)।

वमाल पुं [दे] कलकल, कोलाहल (दे ६, ६०)।

वम्ह पुं [व्रह्मन्] १ ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७७)। २ देखो वंभ (हे २, ७४; कुमा; गा ८१६; अच्यु १३; वजा २६; सम्मत्त ७७; हे १, ५६; २, ६३; ३, ५६)। ३ चरित्र देखो वंभ-चेर (हे २, ६३; १०७)। ४ तरु पुं [तरु] पलाश का पेड़ (कुमा)। ५ धमणी ली [धमनी] ब्रह्मनाड़ी (अच्यु ८४)।

वम्हज्ज (शौ) देखो वंभण (प्राकृ ८७)।

वम्हण देखो वंभण (अच्यु १७; प्रयौ ३७)।

वम्हणय देखो वंभणय (भग)।

वम्हहर [दे] देखो वंभहर (पङ्)।

वम्हाल पुं [दे] अपत्मार, वायु-रोग-विशेष, मृगी रोग (पङ्)।

वय पुं [वक] १ पक्षि-विशेष, वयुला। २ कुवेर। ३ महादेव। ४ पुष्प-वृक्ष विशेष, मल्लिका का गच्छ (आ २३)। ५ राक्षस-विशेष (आ २३)। ६ असुर-विशेष, वकासुर (वेणी १७७)।

वयाला देखो वा-याला (पव १६)।

वरठ पुं [दे] वान्य-विशेष (पव १५४ टी)।

वरह न [वर्ह] १ मयूर-पिच्छ (स ५००)। २ पत्र। ३ परिवार (प्राकृ २८)। देखो वरिह।

वरहि } पुं [वर्हिन्] मयूर, मोर (प्राकृ;  
वरहिण } प्राकृ २८; पउम; २८, १२०;  
गाया १, १; परह १; १; औप)।

वरिह देखो वरह (हे २, १०४)। ० हर पुं [धर] मयूर (पङ्; प्राकृ २८)।

वरिहि } देखो वरहि (कप्प; हे ४, ४२२)।  
वरिहिण }

वरुअ न [दे] वृण-विशेष, इक्षु-सदृश वृण (दे ५, १६; ६, ६१; पात्र)।

वरुड पुं [दे] शिल्पी-विशेष, चटाई बनाने-वाला शिल्पी (अणु १४६)।

वल अक [ज्वल] जलना, गुजराती में 'वळु'। वलति (हे ४, ४१६)।

वल अक [वल्] १ जीना। २ सक. खाना। वलइ (हे ४, २५६)।

वल सक [ग्रह्] ग्रहण करना। वलइ (पङ्)। देखो वल = ग्रह्।

वल पुं [वल] १ वलदेव, हलधर, वासुदेव का बड़ा भाई (पउम २०, ८४; पात्र)। २ छन्द-विशेष (पिग)। ३ एक क्षत्रिय परिव्राजक (श्रीप)। ४ न. सामर्थ्य, पराक्रम (जी ४२; स्वप्न ४२; प्रासू ६३)। ५ शारीरिक पराक्रम; 'वलवीरियाणं जयो भेओ' (अज्ज ६५)।

६ सैन्य, सेना (उत्त ६, ४; कुमा)। ७ लाद्य-विशेष; 'आसाढाहि वलेहि भोजा कज्जं सार्वेति' (सुज १०, १७)। ८ अष्टम तप, लगातार तीन दिनों का उपवास (संबोध ५८)। ९ पर्वत-विशेष का एक कूट—शिवर (ठा ६)।

० च्छि वि [च्छित्] १ वल का नाशक। २ न. जहर, विष (से २, ११)। ०णु देखो ०न्न (राज)। ०देव पुं [०देव] हली, वासुदेव का बड़ा भाई, राम (सम ७१; श्रीप)। ०न्न वि [०न्न] वल को जाननेवाला (आचा)।

०भद् पुं [०भद्र] १ भरतजेव का भावी सातवां वासुदेव (सम १५४)। २ राजा भरत का एक प्रपौत्र (पउम ५, ३)। ३ एक विमानावास, देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३३)। देखो ०हद्। ०भाणु पुं [०भानु] राजा वलमित्र का भागिनेय (काल)। ०महणा ली [०मथनी] विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)। ०मित्त पुं [०मित्र] इस नाम का एक राजा (विचार ४६४; काल)। ०व वि [०वत्] १ वलवान्, वलिष्ठ (वित्ते ७६८)। २ प्रभूत सैन्यवाला (श्रीप)। ३ पुं. अहोरात्र का आठवां मुहूर्त (सुज १०, १३)। ०वइ पुं [०पति] सेनापति, सेनाध्यक्ष (महा)।

०वत्, ०वग देखो ०व (गाया १, १; औप; गया १, ५)। ०वत्त न [०वत्त्] वलिष्ठता (ओघना ६)। ०वाउय वि [०व्यापृत] सैन्य में लगाया हुआ (श्रीप)। ०हद् पुं [०भद्र] १ वलदेव। २ छन्द-विशेष (पिग)। देखो ०भद्।

०न्न वि [०न्न] वल को जाननेवाला (आचा)। ०भद् पुं [०भद्र] १ भरतजेव का भावी सातवां वासुदेव (सम १५४)। २ राजा भरत का एक प्रपौत्र (पउम ५, ३)। ३ एक विमानावास, देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३३)। देखो ०हद्। ०भाणु पुं [०भानु] राजा वलमित्र का भागिनेय (काल)। ०महणा ली [०मथनी] विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)। ०मित्त पुं [०मित्र] इस नाम का एक राजा (विचार ४६४; काल)। ०व वि [०वत्] १ वलवान्, वलिष्ठ (वित्ते ७६८)। २ प्रभूत सैन्यवाला (श्रीप)। ३ पुं. अहोरात्र का आठवां मुहूर्त (सुज १०, १३)। ०वइ पुं [०पति] सेनापति, सेनाध्यक्ष (महा)।

०वत्, ०वग देखो ०व (गाया १, १; औप; गया १, ५)। ०वत्त न [०वत्त्] वलिष्ठता (ओघना ६)। ०वाउय वि [०व्यापृत] सैन्य में लगाया हुआ (श्रीप)। ०हद् पुं [०भद्र] १ वलदेव। २ छन्द-विशेष (पिग)। देखो ०भद्।

०न्न वि [०न्न] वल को जाननेवाला (आचा)। ०भद् पुं [०भद्र] १ भरतजेव का भावी सातवां वासुदेव (सम १५४)। २ राजा भरत का एक प्रपौत्र (पउम ५, ३)। ३ एक विमानावास, देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३३)। देखो ०हद्। ०भाणु पुं [०भानु] राजा वलमित्र का भागिनेय (काल)। ०महणा ली [०मथनी] विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)। ०मित्त पुं [०मित्र] इस नाम का एक राजा (विचार ४६४; काल)। ०व वि [०वत्] १ वलवान्, वलिष्ठ (वित्ते ७६८)। २ प्रभूत सैन्यवाला (श्रीप)। ३ पुं. अहोरात्र का आठवां मुहूर्त (सुज १०, १३)। ०वइ पुं [०पति] सेनापति, सेनाध्यक्ष (महा)।

०वत्, ०वग देखो ०व (गाया १, १; औप; गया १, ५)। ०वत्त न [०वत्त्] वलिष्ठता (ओघना ६)। ०वाउय वि [०व्यापृत] सैन्य में लगाया हुआ (श्रीप)। ०हद् पुं [०भद्र] १ वलदेव। २ छन्द-विशेष (पिग)। देखो ०भद्।

०न्न वि [०न्न] वल को जाननेवाला (आचा)। ०भद् पुं [०भद्र] १ भरतजेव का भावी सातवां वासुदेव (सम १५४)। २ राजा भरत का एक प्रपौत्र (पउम ५, ३)। ३ एक विमानावास, देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३३)। देखो ०हद्। ०भाणु पुं [०भानु] राजा वलमित्र का भागिनेय (काल)। ०महणा ली [०मथनी] विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)। ०मित्त पुं [०मित्र] इस नाम का एक राजा (विचार ४६४; काल)। ०व वि [०वत्] १ वलवान्, वलिष्ठ (वित्ते ७६८)। २ प्रभूत सैन्यवाला (श्रीप)। ३ पुं. अहोरात्र का आठवां मुहूर्त (सुज १०, १३)। ०वइ पुं [०पति] सेनापति, सेनाध्यक्ष (महा)।

०वत्, ०वग देखो ०व (गाया १, १; औप; गया १, ५)। ०वत्त न [०वत्त्] वलिष्ठता (ओघना ६)। ०वाउय वि [०व्यापृत] सैन्य में लगाया हुआ (श्रीप)। ०हद् पुं [०भद्र] १ वलदेव। २ छन्द-विशेष (पिग)। देखो ०भद्।

०न्न वि [०न्न] वल को जाननेवाला (आचा)। ०भद् पुं [०भद्र] १ भरतजेव का भावी सातवां वासुदेव (सम १५४)। २ राजा भरत का एक प्रपौत्र (पउम ५, ३)। ३ एक विमानावास, देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३३)। देखो ०हद्। ०भाणु पुं [०भानु] राजा वलमित्र का भागिनेय (काल)। ०महणा ली [०मथनी] विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)। ०मित्त पुं [०मित्र] इस नाम का एक राजा (विचार ४६४; काल)। ०व वि [०वत्] १ वलवान्, वलिष्ठ (वित्ते ७६८)। २ प्रभूत सैन्यवाला (श्रीप)। ३ पुं. अहोरात्र का आठवां मुहूर्त (सुज १०, १३)। ०वइ पुं [०पति] सेनापति, सेनाध्यक्ष (महा)।

०वत्, ०वग देखो ०व (गाया १, १; औप; गया १, ५)। ०वत्त न [०वत्त्] वलिष्ठता (ओघना ६)। ०वाउय वि [०व्यापृत] सैन्य में लगाया हुआ (श्रीप)। ०हद् पुं [०भद्र] १ वलदेव। २ छन्द-विशेष (पिग)। देखो ०भद्।

०न्न वि [०न्न] वल को जाननेवाला (आचा)। ०भद् पुं [०भद्र] १ भरतजेव का भावी सातवां वासुदेव (सम १५४)। २ राजा भरत का एक प्रपौत्र (पउम ५, ३)। ३ एक विमानावास, देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३३)। देखो ०हद्। ०भाणु पुं [०भानु] राजा वलमित्र का भागिनेय (काल)। ०महणा ली [०मथनी] विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)। ०मित्त पुं [०मित्र] इस नाम का एक राजा (विचार ४६४; काल)। ०व वि [०वत्] १ वलवान्, वलिष्ठ (वित्ते ७६८)। २ प्रभूत सैन्यवाला (श्रीप)। ३ पुं. अहोरात्र का आठवां मुहूर्त (सुज १०, १३)। ०वइ पुं [०पति] सेनापति, सेनाध्यक्ष (महा)।

वलकार } पुं [वलात्कार] जवरदस्ती (पउम  
वलकार } ४६, २६; दे ६, ४६; अभि  
२१७; स्वप्न ७६)।

वलकारिद (शौ) वि [वलात्कारित] जिस पर वलात्कार किया गया हो वह (नाट—मालती १२३)।

वलद पुं [दे] वलघ, वैल (सुपा ५४५; नाट—मृच्छ ६०)।

वलमड्डा ली [दे] वलात्कार, जवरदस्ती (दे ६, ६२)।

वलमोडि देखो वलामोडि; 'मग्गिग्रलद्धं वल-मोडिचुविए अण्णणेण उवणीदे' (गा ८२७)।

वलमोडिअ देखो वलामोडिअ; 'केसेसु वल-मोडिअ तेण समरम्मि जयसिरी गहिआ' (गा ६७७)।

वलय पुं [दे] वलघ, वैल (पउम ८०, १३)।

वलया देखो वलाया (हे १, ६७)।

वलचट्टि ली [दे] १ सखी। २ व्यायाम को सहन करनेवाली ली (दे ६, ६२)।

वलहट्टुया ली [दे] चने की रोटी (वज्ज ११४)।

वला अ. ली [वलात्] जवरदस्ती, वलात्कार (से १०, ७८; ओघमा २०); 'वलाए' (उप १०३१ टी)।

वला ली [वला] १ मनुष्य की दश दशाओं में चौथी अवस्था, तीस से चालीस वर्ष तक की अवस्था (तंडु १६)। २ दृष्टि-विशेष, योग की एक दृष्टि। ३ भगवान् कुन्धुनाय की शासन-देवी, अच्युता (राज)।

वलाका देखो वलाया (परह १, १—पत्र ८)।

वलाणय न [दे] १ उद्यान आदि में मनुष्य को बैठने के लिए बनाया जाता स्थान—बेंच आदि (वर्मवि ३३; सिरि ५८६)। २ द्वार, दरवाजा; 'पविसंतो चेव वलाणयम्मि कुज्जा निसीहिया तित्ति' (चेइय १८८)।

वलामोडि ली [दे. वलामोडि] वलात्कार (दे ६, ६२)।

वलामोडिअ अ [दे. वलादामोड्य] वला-त्कार से, जवरदस्ती से; 'केसेसु वलालोडिअ तेण अ समरम्मि जयसिरी गहिआ' (काप्र १६७; उत्तर १०३; पि २३८)।

बलामोलि देखो बलामोडि (से १०, ६४) ।  
 बलाया स्त्री [बलाका] वक-विशेष, विस-  
 कण्ठिका, वगुले की एक जाति (हे १, ६७;  
 उप १०३१ टी) ।  
 बलाहग पुं [बलाहक] मेघ, जीमूत; 'गलिय-  
 जलबलाहगपंडुर' (वसु) ।  
 बलाहगा देखो बलाहया (ठा ८) ।  
 बलाहय देखो बलाहग (गाया १, ५; कप्प;  
 पाय) ।  
 बलाहया स्त्री [बलाहका] १ वक-विशेष,  
 बलाका (उप २६४) । २ देवी-विशेष, अनेक  
 दिक्कुमारी देवियों का नाम (इक—पत्र  
 २३१; २३४) ।  
 बलि पुं [बलि] १ अमुरकुमारों का उत्तर  
 दिशा का इन्द्र (अ २, ३; १०; इक) । २  
 स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा (गा ४०६) । ३  
 सातवां प्रतिवासुदेव (पत्रम ५, १५६) । ४  
 एक दानव, दैत्य-विशेष (कुमा) । ५ पुंल्लो-  
 उपहार, भेंट (पिड १६५; दे १, ६६) । ६  
 पूजोपहार, देवता को धरा जाता नैवेद्य;  
 'सुरहिविलेवणवक्कुमुमदामवल्लिदीवणेहि च'  
 (पत्र १ टी), 'वंदणपूयणवल्लिदीयणेसु' (चेइय  
 ५२; पत्र १३३; सुर ३, ७८, कुप्र १७४) ।  
 ७ भूत आदि को दिया जाता भोग, बलिदान;  
 'भूयवल्लिन्व' (वे ४६) । ८ पूजा, अर्चा,  
 सपर्या । ९ राज-ग्राह्य भाग । १० चामर का  
 दण्ड । ११ उपप्लव (हे १, ३५) । १२  
 छन्द-विशेष (पिंग) । उट्टु पुं [पुट्ट] काक,  
 कौआ (पाय) । कम्म न [कर्मन्] १  
 पूजन, पूजा की क्रिया । २ देवता को उप-  
 हार—नैवेद्य धरने की क्रिया (भग; सूअ  
 २, २, ५५; गाया १, १; न; कप्प; औप) ।  
 चंचा स्त्री [चञ्चा] बलीन्द्र की राजधानी  
 (गाया २; इक) । सुह पुं [सुख] बन्दर,  
 कपि (पाय) । यम्म देखो कम्म (पत्रम  
 ३७, ४६) ।  
 चलि वि [चलिन्] १ बलवान्, बलिष्ठ (सुपा  
 ४५१; कुप्र २७७) । २ पुं. रामचन्द्र का  
 एक सुभट (पत्रम ५६, ३८) ।  
 चलिअ वि [च] १ पीन, मांसल, स्थूल, मोटा  
 (दे ६, ८८; उप १४२ टी; वृह ३) । २

क्रि. गाढ़, बाढ़, अतिशय, अत्यर्थ; 'गाढं  
 वाढं वलिअं वणिअं दढमइसएण अच्चर्थ'  
 (पाय; गाया १, १—पत्र ६४; भग ६,  
 ३३) ।  
 चलिअ वि [चलिन्, चलिक्] १ बलवान्,  
 सबल, पराक्रमी; 'कत्वावि जीवो वलियो  
 कत्ववि कम्माइं हुंति वलियाइं' (प्रासु १२३),  
 'एस अस्स ताओ वलियदाइयपेत्तिओ इमं  
 विसमं पत्तिं समस्सियो' (महा, पत्रम ४८,  
 ११७; सुपा २७५; औप) । २ प्राणवाला  
 (ठा ४, ३—पत्र २४६) ।  
 चलिअ वि [चलित] जिसको बल उत्पन्न  
 हुआ हो, सबल (कुप्र २७७) । २ पुं. छन्द-  
 विशेष (पिंग) ।  
 चलिअंक पुं [चलिताङ्क] छन्द-विशेष (पिंग) ।  
 चलिआ स्त्री [दे. चलिआ] सूप, अन्न  
 को तुपादि-रहित करने का एक उपकरण  
 (आवम) ।  
 चलिठ वि [चलिष्ठ] बलवान्, सबल (प्रासु  
 १५४) ।  
 चलिइ पुं [दे. वलीवर्द] बलव, वृषभ; 'दो  
 सारवलिहावि हु' (सुपा २३८) ।  
 चलिमड्डा स्त्री [दे] बलाकार; 'अन्नह वलि-  
 मड्डाए गहिउमणो सोम ! एकलियं' (उप  
 ७२८ टी) ।  
 चलिइव देखो वलीवर्द (पत्रम ३३, ११६) ।  
 चलिस न [चडिश] मछली-पकड़ने का कांटा  
 (हे १, २०२) ।  
 चलिस्सह पुं [चलिस्सह] स्वनाम-ख्यात एक  
 जैन मुनि, आर्य महागिरि का एक शिष्य  
 (कप्प) ।  
 चलीअ वि [चलीयस्] अधिक बलवाला,  
 बलिष्ठ (अभि १०१) ।  
 चलीवर्द पुं [चलीवर्द] बैल, वृषभ (विपा  
 १, २) ।  
 चलुल्लड (अप) देखो बल=बल (हे ४, ४३०) ।  
 च्लो अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय—१  
 निश्चय, निर्णय । २ निर्धारण (हे २, १८५;  
 कुमा) ।  
 चल्ल न [चाल्य] बालत्व, बालकपन, शिशुता  
 (कुमा ३, ३५) । देखो बाल = बाल्य ।

चव सक [चू] बोलना; कहना । ववइ, ववए  
 (पड) । देखो चुव, चू ।  
 चव न [चव] ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध एक करण  
 (विसे ३३४८; सूत्रनि ११; सुपा १०८) ।  
 चव्वाड पुं [दे] दक्षिण इस्त (दे ६, ८६) ।  
 चहड वि [चृहत्] बड़ा, महान् । 'इथ न  
 [दिट्ठ] नगर-विशेष (ती ३५) ।  
 चहत्तरी देखो वाहत्तरी (पत्र २०) ।  
 चहप्पइ १ देखो वहस्सइ (हे १, १३८; २,  
 चहप्फइ ६६; १३७; पड, कुमा; सम्मत्त  
 १३७) ।  
 चहरिय देखो चहिरिय, 'तालरववाहरियवियंतं'  
 (महा) ।  
 चहल न [दे] पंक, कंदम, कादा (दे ६,  
 ८६) । सुरा स्त्री [सुरा] पंक्वाली मदिरा  
 (दे ५, २) ।  
 चहल वि [चहल] १ निविड, सान्द्र,  
 निरंतर, गाढ (गउड; हे २, १७७) । २  
 स्थूल, मोटा (ठा ४, २; गउड) । ३ पुष्कल,  
 अत्यन्त (कप्प) ।  
 चहलिम पुंल्लो [चहलता] १ स्थूलता, मोटाई ।  
 २ सातत्य, निरंतरता (वजा ५२; गा ७५५) ।  
 चहली स्त्री [चहली] १ देश-विशेष, भारतवर्ष  
 का एक उत्तरीय देश; 'तक्खसिलाइ पुरीए  
 चहलीविसयावयंसभूयाए' (कुप्र २१२) । २  
 चहली देश की स्त्री (गाया १, १—पत्र  
 ३७, औप, इक) ।  
 चहलीय वि [चहलीक] देश-विशेष में—  
 चहली देश में रहनेवाला (पएह १, १—  
 पत्र १४) ।  
 चहव देखो चहु; 'काले समइक्कते अइवहवे'  
 (पत्रम ४१, ३६), 'सोहगकप्पतत्वरपमुहत्तवे  
 सा कुणइ चहवे' (सम्मत्त २१७), 'जायंति  
 चहववरंगपल्लवुल्लासिणो भक्ति' (हि ५) ।  
 चहस्सइ पुं [चृहस्पति] १ ज्योतिष्क देव-  
 विशेष, एक महाग्रह (ठा २, ३—पत्र ७७;  
 सुज २०—पत्र २६४) । २ सुराचार्य, देव-  
 गुरु (कुमा) । ३ पुष्य नक्षत्र का अधिष्ठाता  
 देव (सुज १०, १२) । ४ राजनीति-प्रणेता  
 एक ऋषि । ५ नास्तिक मत का प्रवर्तक एक  
 विद्वान् (हे २, १३७) । ६ एक ब्राह्मण,  
 पुरोहित-पुत्र । ७ विपाकसूत्र का एक अव्ययन

(विपा १, १) । °दत्त पुं [°दत्त] देखो अंत के दो अर्थ (विपा १, ५) ।

वहि अ [वहिस्] वाहर 'अवहिलेसे परिक्रम' (आचा), 'गामवहिन्मि यतं ठाविकरण गामंतरे पविट्टो सो' (उप ६ टी) । °हुत्त वि [°दे] वहिमु'ख (गउड) ।

वहिअ वि [दे] मथित, विलोडित (पड्) ।

वहि देखो वहि (आचा; उव) ।

वहिणिआ } लो [भगिनी] वहिन (अभि  
वहिणी } १२७; कप्पु; पाय; पउम ६,  
६; हे २, १२६; कुमा) । २ सखी, वयस्या  
(संलि ४७) । °तणअ पुं [°तनय] भगिनी-  
पुत्र (दे) । °वइ पुं [°पति] वहनोई (दे) ।  
देखो भइणी ।

वहिच्चा अ [वहिस्तान्] वाहर (सुज्ज ९) ।

वहिद्धा अ [दे] १ वाहर । २ मैथुन, लो-  
संभोग (हे २, १७४; ठा ४, १—पत्र  
२०१) ।

वहिद्धा अ [वहिर्धा] वाहर की तरफ (वस  
२, ४) ।

वहिया अ [वहिस्, वहिस्तान्] वाहर  
(विपा १, १; आचा; उवा; औप) ।

वहिर वि [वाह] वहिमु'त, वाहर का (प्राङ्  
३८) ।

वहिर वि [वधिर] बहरा, जो चुन न सकता  
हो वह (विपा १, १; हे १, १८७; प्राप्  
१४३) ।

वहिरिय वि [वधिरित] वहिर किया हुआ  
(सुर २, ७५) ।

वहु वि [वहु] १ प्रचुर, प्रभूत, अनेक, अनल्प  
(ठा ३, १; भग; प्राप् ४१; कुमा; था २७) ।

लो. °हुई (पड्, प्राङ् २८) । २ क्रि. व.  
अत्यन्त, अतिशय (कुमा ५, ६६; काल) ।

°उदग पुं [°उदक] वानप्रस्थ का एक भेद  
(औप) । °चूड पुं [°चूड] विद्यावर वंश

का एक राजा (पउम ५, ४६) । °जंपिर वि  
[°जलिपट्ट] वाचाट, वकवादी (पात्र) ।

°जण पुं [°जन] अनेक लोग (भग) । २ न.  
आलोचना का एक प्रकार (ठा १०) । °णड

देखो नड (राज) । °णाय न [°नाद]  
नगर-विशेष (पउम ५५, ५३) । °देसिअ

वि [°देश्य] कुछ ज्यादा, थोड़ा बहुत  
(आचा २, ५, १, २२) । °नड पुं [°नट]  
नट की तरह अनेक भेष को धारण करने-  
वाला (आचा) । °पडिपुण्ण, °पडिपुत्र वि  
[°परिपूर्ण] पूरा पूरा (ठा ६; भग) ।  
°पडिय वि [°पठित] अति शिक्षित,  
अतिशय शिक्षित (खाया १, १४) ।  
°पलावि वि [°प्रलापिन्] वकवादी (उप  
पृ ३३९) । °पुत्तिअ न [°पुत्रिक] बहु-  
पुत्रिका देवी का सिंहासन (निर १, ३) ।  
°पुत्तिआ लो [°पुत्रिका] १ पूरुंभद्र नामक  
यक्षेन्द्र की एक अग्र-महिणी (ठा ४, १;  
खाया २) । २ सौवर्ग देवलोक की एक देवी  
(निर १, ३) । °प्पएस वि [°प्रदेश]  
प्रचुर प्रदेश—कर्म-दल वाला (भग) ।  
°फोड वि [°स्फोट] बहु-भक्तक (ओधभा  
१९१) । °भंगिय न [°भङ्गिक] दृष्टिवाद  
का सूत्र-विशेष (सम १२८) । °मय वि  
[°मत्] १ अत्यन्त अभीष्ट (जीव १) । २  
अनुमोदित, संमत, अनुमत (काप्र १७९; सुर  
४, १८८) । °माइ वि [°मायिन्] अति  
कपटी (आचा) । °माण पुं [°मान्] अति-  
शय आदर (आवम; पि ६००; नाट—विक्र  
५) । °माय वि [°माय] अति कपटी  
(आचा) । °मुल्ल, °मोल्ल वि [°मूल्य]  
मूल्यवान्, कीमती (राज; पड्) । °रय वि  
[°रत] १ अत्यन्त आसक्त (आचा) । २  
जमालि का अनुयायी । ३ न. जमालि का  
चलाया हुआ एक मत—क्रिया की निष्पत्ति  
अनेक समयों में ही माननेवाला मत (ठा १०;  
औप) । °रय न [°रजस्] बाद्य-विशेष,  
चिउड़ा की तरह का एक प्रकार का बाद्य  
(आचा २, १, १, ३) । °रव वि [°रव]  
१ प्रभूत यशवाला, यशस्वी (सम ५१) । २  
न. एक विद्यावर-नगर (इक) । °रुवा लो  
[°रुपा] सुरूप नामक भूतेन्द्र की एक अग्र-  
महिणी (ठा ४, १; खाया २) । °लेव पुं  
[°लेप] चावल आदि के चिकने माँड़ का  
लेप (पडि) । °वयण न [°वचन] बहुत्व-  
बोधक प्रत्यय (आचा २, ४, १, ३) । °विह  
वि [°विध] अनेक प्रकार का, तानाविध  
(कुमा; उव) । °विहिय वि [°विध,

°विधिक] विविध, अनेक तरह का (सुयानि  
९४) । °संपत्त वि [°संप्राप्त] कुछ कम  
संप्राप्त (भग) । °सच्च पुं [°सत्य] अश्वरात्र  
का दशवां मुहूर्त (सुज १०; १३) । °सो अ  
[°शस्] अनेक वार (उव; था २७; प्राप्  
४२; १५६; स्वप्न ५६) । °स्सुय वि  
[°श्रुत] शास्त्र, शास्त्रों का अच्छा जानकार,  
परिउत (भग; सम ५१; ठा ६—पत्र ३५२;  
सुपा ५६४) । °हा अ [°धा] अनेकवा  
(उव; भवि) ।

वहुअ } वि [वहु, °क] ऊपर देखो (हे  
वहुअय } २, १६४; कुमा; था २७) ।

वहुआरिआ } लो [दे] बहारी, भाड़ू (दे  
वहुआरी } ८, १७ टी) ।

वहुई देखो वहु = ई ।

वहुखज्ज वि [वहुखाय] १ बहु-भक्ष्य, खूब  
खाने योग्य । २ पृथुक—चिउड़ा बनाने योग्य  
(आचा २, ४, २, ३) ।

वहुग देखो वहुअ (आचा ७) ।

वहुजाण पुं [दे] १ चोर, तस्कर । २ घृत्तं,  
ठा । ३ चार, उपपत्ति (पड्) ।

वहुण पुं [दे] १ चोर, तस्कर । २ घृत्तं (दे  
६, ९७) ।

वहुणाय वि [वाहुनाद्] बहुनाद-नगर का  
(पउम ५५, ५३) ।

वहुत्त वि [प्रभूत] बहुत्त, प्रचुर (हे १,  
२३३) ।

वहुमुह पुं [दे. वहुमुख] दुर्जन, खल (दे ६,  
९२) ।

वहुराणा लो [दे] खड्ग-वारा, तलवार की  
धार (दे ६, ९१) ।

वहुरावा लो [दे] शिवा, शृगाली (दे ६,  
९१) ।

वहुरिया लो [दे] बहारी, भाड़ू (वृह १) ।

वहुल वि [वहुल] १ प्रचुर, प्रभूत, अनेक  
(कुमा; था २८) । २ बहुविध, अनेक प्रकार  
का (आवम) । ३ व्याप्त (सुपा ६३०) । ४

पुं. कृप्य पत्त (पात्र) । ५. स्वनाम-ख्यात  
एक ब्राह्मण (भग १५) ।

वहुल पुं [वहुल] आचार्य महागिरि के शिष्य  
एक प्राचीन जैन मुनि (एदि ४९) ।

बहुला स्त्री [बहुला] १. गौ, गैया (पात्र)।  
२ इस नाम की एक स्त्री (उवा)। वण न  
[वन] मथुरा नगरी का एक प्राचीन वन  
(ती ७)।

बहुलि पुं [बहुलिन्] स्वनाम-व्यात एक  
राज-पुत्र (उप २३७)।

बहुली स्त्री [दे] माया, कपट, दम्भ (सुपा  
६३०)।

बहुलिआ स्त्री [दे] बड़े भाई की स्त्री (पड्)।

बहुली स्त्री [दे] स्त्रीचित शालभक्षिका, खेलने  
की पुतली (पड्)।

बहुवी देखो बहुई (हे २, ११३)।

बहुवीहिं पुं [बहुवीहिं] व्याकरण-प्रसिद्ध  
एक समास (अणु १४७)।

बहुअ वि [प्रभूत] बहुत, प्रचुर (गउड)।

बहेडय पुं [विभीतक] १ बहेड़ा का पेड़  
(हे १, ८८; १०५; २०६)। २ न. बहेड़ा  
का फल (कुमा)।

वां वि. व. [द्वां, द्वि] दो, दो की संख्या-  
वाला। इस (अप) देखो वीस (पिंग)।  
ईस देखो वीस (पिंग)। णउइ स्त्री  
[नयति] वानवे, ६२ (सम ६६; कम्म  
६, २६)। णउय वि [नयत] ६२ वां  
(पउम ६२, २६)। णुवइ देखो णउइ  
(रयण ६२)। याल, यालोस स्त्री  
[चत्वारिंशत्] बयालीस, चालीस और  
दो, ४२ (उव; नव २; भग; सम ६६;  
कप; श्रौप), स्त्री, याला, यालीसा (कम्म  
६, ६; कप)। यालीसइम वि [चत्वारिंशत्तम]  
बयालीसवां, ४२ वां (पउम ४२,  
३७)। र, रस वि. व. [दशन्] बारह,  
१२; 'वारभिक्षुपडिमवरो' (संघोष २२;  
कम्म ४, ५; १५; नव २०; दं ७; कप;  
जी २८; उवा)। रस वि [दश] बारहवां,  
१२ वां (सुख २, १७)। रसंग स्त्री  
[दशाङ्ग] बारह जैन अंग-अंग (पि ४११),  
स्त्री, गी (राज)। रसम वि [दश]  
बारहवां (सूत्र २, २, २१; पव ४६; महो)।  
रसमासिय वि [दशमासिक] बारह  
मास का, बारह-मास-संबन्धी (कुप्र १४१)।  
रसय न [दशक] बारह का समूह (श्रीधमा

१५)। रसवरिसिय वि [दशवार्षिक]  
बारह वर्ष का (मोह १०२; कुप्र ६०)।  
रसविह वि [दशविध] बारह प्रकार का  
(नव ३०)। रसाह न [दशाह,  
दशाख्य] १ बारहवां दिन। २ जन्म के बार-  
हवें दिन किया जाता उत्सव, बरही (शाया  
१, १; कप; श्रौप; सुर ३, २५)। रसी स्त्री  
[दशी] बारहवीं तिथि, द्वादशी (सम २६;  
पउम ११७, ३२; ती ७)। रसुत्तरसय वि  
[दशोत्तरशत] एक सौ बारहवां (पउम  
११२, २३)। रह देखो रस = दशन् (हे  
१, २१६)। रट्टि स्त्री [पट्टि] वासठ,  
६२ (सम ७५; पंच ५, १८; सुर १३,  
२३८; देवेन्द्र १३७)। रण (अप)। देखो  
वन्न (पिंग)। रण देखो वन्न (कुमा)।  
रत्तर वि [सप्तत] बहत्तरवां, ७२ वां  
(पउम ७२, ३८)। रत्तरि स्त्री [सप्तति]  
बहत्तर, ७२ (सम ८३; भग; श्रौप, प्रासू  
१२६)। रन्न स्त्री [पञ्चाशत्] बावन,  
पचास और दो, ५२ (सम ७१; महा);  
'वावन्नं होंति जिणमवणा' (सुख ६, १)।  
रन्न वि [पञ्चाश] बावनवां (पउम ५२,  
३०)। रीस स्त्री [विंशति] बाईस,  
२२ (भग; जी ३४), स्त्री, सा (पि ४४७)।  
रीस वि [विंश] बाईसवां, २२ वां (पउम  
२०, ८२; पत्र ४६)। रीसइ देखो रीस =  
विंशति (भग; पव १८६)। रीसइम वि  
[विंशतितम] १ बाईसवां, २२ वां (पउम  
२२, ११०; अंत २६)। २ लगातार दस  
दिन का उपवास (शाया १, १—पत्र ७२)।  
रीसविह वि [विंशतिविध] बाईस प्रकार  
का (सम ४०)। सट्टि वि [पट्टि] वासठवां,  
६२ वां (पउम ६२, ३७)। सट्टि स्त्री  
[पट्टि] वासठ, ६२ (सम ७५, पिंग)।  
सी, सीइ स्त्री [अशीति] बयासी, ८२  
(नव २; सम ८६; कप; कम्म ५, १७)।  
सीइम वि [अशीतितम] बयासीवां, ८२  
वां (पउम ८२, १२२)। हत्तर (अप) देखो  
हत्तरि (सण)। हत्तरि स्त्री [सप्तति]  
बहत्तर, ७२ (कप; कुमा; सुपा ३१६)।

वाअ पुं [दे] बाल, शिशु (पड्)।

वाइया स्त्री [दे] मां, माता; गुजराती में 'वाई'  
(कुप्र ८७)।

वाउल्लया स्त्री [दे] पञ्चालिका, पुतली;  
वाउल्लिआ 'आलिहियभित्तिवाउल्लयं व न हु  
वाउल्ली मुंजिउं तरइ' (वज्जा ११८;  
कप; दे ६, ६२)।

वाउस देखो वउस (पिड २४; श्रौष ३४८)।

वाउसिय वि [वाकुशिक] 'वकुश' चारित्र-  
वाला (सुख ६, १)।

वाउसिया स्त्री [वाकुशिका] 'वकुश' चारित्र-  
वाली (शाया १, १६—पत्र २०६)।

वाढ क्वि [वाढ] १ अतिशय, अत्यन्त, घना  
(उप ३२०; पात्र; महा)। ककार पुं  
[कार] स्त्रोकार-सूचक उक्ति (विसे ५६५)।

वाण पुं [दे] १ पतल वृक्ष, कटहर का पेड़।  
२ वि. सुभग (दे ६, ६७)।

वाण पुं स्त्री [वाण] १ वृक्ष-विशेष, कटसरैया  
का गाछ (पण १७—पत्र ५२६; कुमा)।  
२ पुं. शर, वाण (कुमा; गउड)। ३ पांच की  
संख्या (सुर १६, २४६)। वत्त न [पात्र]  
तूपीर, शरवि (से १, १८)।

वाध देखो वाह = वाध्। कवक. वाधीअमाण  
(पि ५६३)।

वाधा स्त्री [वाधा] विरोध (धर्मसं ११७)।

वाधिय वि [वाधित] विरोधवाला; प्रमाण-  
विद्ध (धर्मसं २५६)।

वाहाण देखो वन्हण (हे १, ६७; पड्)।

वाय न [वाक] वक-समूह (श्रा २३)।

वायर वि [वादर] १ स्थूल, मोटा, असूक्ष्म  
(पणह १, १; पव १६२; दे ४४)। २ नववां  
गुण-स्थानक (कम्म २, ३; ५; ७)। नाम  
न [नामन्] कर्म-विशेष, स्थूलता-हेतु कर्म  
(सम ६७)।

वार न [द्वार] दरवाजा (हे १, ७६)।

वारगा स्त्री [द्वारका] स्वनाम-प्रसिद्ध नगरी,  
जो आजकल भी काठियावाड़ में 'द्वारका' के  
ही नाम से प्रसिद्ध है (उत्त २२, २२; २७)।  
वारवई स्त्री [द्वारवती] १ ऊपर देखो (सम  
१५१; शाया १, ५; उप ६४८ टी)। २  
भगवान् नेमिनाय की दीक्षा-शिविका (विचार  
१२६)।

वाल पुं [वाल] १ वाल, केश (उप ८३४) ।  
 २ बालक, शिशु (कुमाः प्रासू ११६) । ३  
 वि. मूल, अज्ञानी (पात्र) । ४ नया, नूतन  
 (कप्पु) । ५ पुं. स्वनाम-व्यात एक विद्यावर  
 राजा (पउम १०, २२) । ६ वि. असंयत,  
 संयम-रहित (ठा ४, ३) । °कइ पुं [°कवि]  
 तहण कवि, नया कवि (कप्पु) । °क पुं  
 [°क] उदित होता सूर्य (कुमा) । °ग्गाह  
 पुं [ग्गाह] बालक की सार-सम्हाल करने-  
 वाला नौकर (मुर १, १६२) । °ग्गाहि पुं  
 [°ग्गाहिन्] वही पूर्वोक्त अर्थ (खाया १,  
 २—पत्र ८४) । °वाय वि [°घात] बाल-  
 हत्या करनेवाला (खाया १, २; १८) । °तव  
 पुंन [°तपस] १ अज्ञानी की तपश्चर्या  
 (भग; औप) । २ वि. अज्ञान-पूर्वक तप करने-  
 वाला (कम्म १, ५६) । °तवस्सि वि  
 [°तपस्विन्] अज्ञान-पूर्वक तप करनेवाला,  
 मूर्ख तपस्वी (पि ४०५) । °पण्डिअ वि  
 [°पण्डित] आशिक व्याग करनेवाला, कुछ  
 श्रंशों में त्यागी और कुछ में अत्यागी (भग) ।  
 °वुद्धि वि [°वुद्धि] अनभिज्ञ (घण ५०) ।  
 °भरण न [°भरण] अविरत दशा का भरण,  
 असंयमी की मौत (भग; सुपा ३५७) । °वियण,  
 °वीणण पुंत्री [°वीज्जन] चामर, चँवर  
 (खाया १, ३), स्त्री. 'उवणहाओ बालवी-  
 अणी' (ठा ५, १—पत्र ३०३) । °हार पुं  
 [°धार] बालक का सार-सम्हाल करनेवाला  
 नौकर (सुपा ४५८) ।  
 बाल देखो बल । °ण्ण, °अ वि [°ज्ञ] बल  
 को जाननेवाला (आचा १, २, ५, ५;  
 आचा) ।  
 बाल न [बाल्य] बालत्व, बचपन, लड़कपन,  
 बालपन, मूर्खता (उत्त ७, ३०) । देखो बल ।  
 बालअ देखो बाल = बाल (गा १२६) ।  
 बालअ पुं [दे] वणिक-पुत्र (दे ६, ६२) ।  
 बालगपोइआ स्त्री [दे] १ जल-मन्दिर,  
 तलाव आदि में बनवाया जाता छोटा प्रासाद ।  
 २ बलनी, अट्टालिका (उत्त ६, २४) ।  
 बाला स्त्री [बाला] १ कुमारी, लड़की  
 (कुमा) । २ मनुष्य की दस अवस्थाओं में  
 पहली दशा, दस वर्ष तक की अवस्था (तंडु  
 १६) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) ।

वालालुंवी स्त्री [दे] तिरस्कार, अवहेलना  
 (सुपा १४) ।  
 वालि वि [वालिन] बाल-प्रधान, सुन्दर केश-  
 वाला (अणु; वृह १) ।  
 वालिआ स्त्री [वालिका] बाला, कुमारी,  
 लड़की (प्रासू ५१; महा) ।  
 वालिआ स्त्री [वालता] १ बालकपन, शिशुता  
 (भग) । २ मूर्खता, बेवकूफी, 'विद्वया मंदस्सा  
 वालिया' (आचा) ।  
 वालिसि वि [वालिस] मूर्ख, बेवकूफ (पात्र;  
 घण २३) ।  
 वाह सक [वाध] १ विरोध करना । २  
 रोकना । ३ पीड़ा करना । ४ विनाश करना ।  
 वाहइ, वाहए (पंचा ५, १५; हे १, १८७;  
 उव), वाहंति (कुप्र ६८) । कवक. वाहिजंत,  
 वाहीअमाण (पउम १८, १६; सुपा ६४५;  
 अभि २४४) क. वाहणिज्ज (कप्पु) ।  
 वाह पुं [वाष्प] अथु, आंसू (हे २, ७०;  
 पात्र; कुमा) ।  
 वाह पुं [वाध] विरोध (भास ३४) ।  
 वाह देखो वाड (प्रयो ३७) ।  
 वाह पुं [वाहु] हाथ, भुजा (संलि २) ।  
 वाहग वि [वाधक] १ रोकनेवाला (पंचा १,  
 ४६) । २ विरोधी; 'अबुवणयवाहगा नियमा'  
 (आवक १६२) ।  
 वाहड पुं [वाहड, वाग्भट] राजा कुमारपाल  
 का स्वनाम-प्रसिद्ध मन्त्री (कुप्र ६) ।  
 वाहण न [वाधन] १ बाधा, विरोध (धमंसं  
 १२७६) । २ विराधन (पंचा १६, ५) ।  
 वाहणा स्त्री [वाधना] ऊपर देखो (धमंसं  
 १११) ।  
 वाहर देखो वाहिर (आचा) ।  
 वाहल पुं [वाहल] देश-विशेष (आवम) ।  
 वाहल न [वाहल्य] स्थूलता, मोटाई (सम  
 ३५; ठा ८—पत्र ४४०; औप) ।  
 वाहा स्त्री [वाधा] १ हरकत, हरज । २  
 विरोध (सुपा १२६) । ३ पीड़ा, परस्पर  
 संश्लेष से होनेवाली पीड़ा (जं १; भग  
 १४, ८) ।  
 वाहा स्त्री [वाहु] हाथ, भुजा (हे १, ३६;  
 कुमा; महा; उवा; औप) ।

वाहा स्त्री [दे. वाहा] नरकावास-श्रेणी  
 (दिनेन्द्र ७७) ।  
 वाहि } अ [वाहिस्] बाहर (मुज्ज १६—  
 वाहिं } पत्र २७१; महा; आचा; कुमा; हे २,  
 १४०; पि ४८१) ।  
 वाहिज्ज न [वाधिये] अधिरता, बहरापन  
 (विसे ३०८) ।  
 वाहिर अ [वाहिस्] बाहर (हे २, १४०;  
 पात्र; आचा; उव) । °ओ अ [°तस्]  
 बाहर से (कप्पु) ।  
 वाहिर वि [वाह्य] बाहर का (आचा; ठा  
 २, १—पत्र ५५; भग २, ८ टी) । °उद्धि  
 पुं [°उध्विन्] कायोत्सर्ग का एक दोष,  
 दोनों पाण्डि मिलाकर और पैर को फैलाकर  
 किया जाता कायोत्सर्ग (चिद्वय ४८६) ।  
 वाहिरंग वि [वाहिरङ्ग] बाहर का, बाह्य  
 (सुप्र २, १, ४२) ।  
 वाहिरिय वि [वाहिरिक, वाह्य] बाहर का,  
 बाहर से संबन्ध रखनेवाला (सम ८३; खाया  
 १, १; पिड ६३६; औप; कप्पु) ।  
 वाहिरिया स्त्री [वाहिरिका] किले के बाहर  
 की गृह-पंक्ति, नगर के बाहर का मुहल्ला  
 (सुप्र २, ७, १; स ६६) ।  
 वाहिरिल्ल वि [वाह्य] बाहर का (भग; पि  
 ५६५) ।  
 वाहु पुंत्री [वाहु] १ हाथ, भुजा (हे १,  
 ३६; आचा; कुमा) । २ पुं. भगवान् ऋषभदेव  
 का पुत्र, बाहुवलि (कुप्र ३१०) । °वलि  
 पुं [°वलि] १ भगवान् आदिनाथ का एक  
 पुत्र, तलशिला का एक राजा (सम ६०;  
 पउम ४, ५२; उव) । २ बाहुवलि के प्रपौत्र  
 का पुत्र (पउम ५, ११) । °मूल न [°मूल]  
 कक्षा, बगल (कप्पु) ।  
 वाहुअ पुं [वाहुक] स्वनाम-व्यात एक ऋषि  
 (सुप्र १, ३, ४, २) ।  
 वाहुडिअ वि [दे] लज्जित, शरमिदा (सुपा  
 ४७४) ।  
 वाहुया-स्त्री [वाहुका] त्रिन्द्रिय जन्तु-विशेष  
 (राज) ।  
 वाहुलग देखो वाहु (तंडु ३६) ।  
 वाहुलेय पुं [वाहुलेय] गो-वत्स, बैल, वृषभ  
 (आवम) ।

बाहुलेर पुं [बाहुलेय] काली गाय का बछड़ा (अणु २१७)।

बाहुल्ल न [बाहुल्य] बहलता, प्रचुरता (पिड ५६; भग; सुपा २७; उप ६०७)।

बाहुल्ल वि [बाष्पवत्] अशुबाला (कुमा; सुपा ४६०)।

वि वि. व. [द्वि] दो, २; 'विन्नि' (हे ४, ४१८; नव ४; ठा २, २; कम्म ४, २; १०; सुख १, १४)। 'जडि पुं [जटिन्] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज्ज २०)। 'दल न [दल] चना आदि वह धान्य जिसके दो टुकड़े बराबर के होते हैं; 'जह विदलं सुलीणं' (वि ३)। 'याल देखो वा-याल (कम्म ६, २८)। 'यालसय पुन [चत्वारिंशच्छत] एक सौ वेग्रासीस; १४२ (कम्म २, २६)। 'विह वि [विध] दो प्रकार का (पिग)। 'लाट्टि लो [पाट्टि] वासठ, ६२ (सुज्ज १०, ६ टी)। 'सत्तरि, 'सयरि लो [सप्तति] बहत्तर, ७२ (पव १६; जीवस २०६; कम्म ३, ५)।

विं } वि [द्वितीय] दूसरा (कम्म ३, १६; विअ } पिग)। 'कसाय पुं [कपाय] अप्रत्याख्यानावरण नामक कपाय (कम्म ४, ५६)।

विअ न [द्विक] दो का समुदाय; युग्म, युगल (भग; कम्म १, ३३; प्रासू १६)।

विआया लो [दे] कौट-विशेष, संलग्न रहने-वाला कौट-द्वय (दे ६, ६३)।

विइअ देखो विइज्ज (हे १, ५; पत्र १६४)।

विइआ देखो वीआ (राज)।

विइज्ज वि [द्वितीय] १ दूसरा (हे १, २४०; प्रासू ५६)। २ सहाय, मदद करने-वाला (पात्र; सुर ३, १४)।

'जे दुहियम्मि न दुहिया,

आवइपत्ते विइज्जया नेव ।

पहुणो न ते उ भिच्चा,

धुत्ता परमव्यग्रो रोया'

(सुर ७, १४५)।

विउण वि [द्विगुण] दुगुना (हे १, ६४; २, ७६; गा २८६)। 'ारय वि [कारक] दुगुना करनेवाला (भवि)।

विउण सक [द्विगुण्य] दुगुना करना। विउणोइ (पि ५५६)।

विट न [वृन्त] फलादि का वन्तन; 'वंयणं विटं' (पात्र)। 'सुरा लो [सुरा] मंदिरा, बाह; 'विटसुरा पिट्ठलजरिया महरा' (पात्र)।

वित देखो वू = वू।

विदिय वि [द्विन्द्रिय] जिसको खचा और जीभ ये दो ही इन्द्रियां हो वह (श्रीप)।

विट्टु पुंन [विन्दु] १ अल्प अंश। २ विन्दो, शून्य, अनुस्वार। ३ दोनों ध्रू का मध्य भाग। ४ रेखागणित का एक चिन्ह; 'विट्टुणो, विट्टुइ' (हे १, ३४; कप्प; उप १०२२; स्वप्न ३६; कस; कुमा)। 'कला लो [कला] अनुस्वार, विन्दो (सिरि १६६)। 'सार न [सार] १ चौदहवां पूर्व, जैन ग्रन्थांश-विशेष (सम २६; विसे ११२६)। २ पुं-मौर्य वंश का एक राजा, राजा चन्द्रगुप्त का पुत्र (विसे ८६२)।

विट्टुइअ वि [विन्दुकित] विन्दु-युक्त, विन्दु-विलिप्त (पात्र; गउड)।

विट्टुइज्जंत वि [विन्दूयमान] विन्दुओं से व्याप्त होता (से ११, १२५)।

विट्टावण न [वृन्दावन] मथुरा के पास का एक वैष्णव-तीर्थ (प्राक् १७)।

विच सक [विच्य] प्रतिविम्बित करना। कर्म. विचिज्जइ (सूक्त ४६)।

विच न [विच्य] १ प्रतिमा, मूर्ति (कुमा)। २ छन्द-विशेष (पिग)। ३ न. विन्वीफल, कुन्दहन का फल (गाया १, ८—पत्र १२६ पात्र; कुमा; दे २, ३६)। ४ प्रतिविम्ब, प्रतिच्छाया। ५ अर्थ-शून्य आकार, 'अरणं जणं पत्तति विचयुयं' (सुअ १, १३, ८)। ६ सूर्य तथा चन्द्र का मण्डल (गउड; कप्प)।

विचवय न [दे] फल-विशेष, भिलावाँ; 'विचवयं भल्लायं' (पात्र)।

विचिसार देखो भिचिसार (अंत)।

विचो लो [विचो] लता-विशेष, कुन्दहन का गच्छ (कुमा)। 'फल न [फल] कुन्दहन का फल (सुपा २६३)।

विचोवणय न [दे] १. सोम। २. विकार। ३. ओसीसा, उच्छीर्षक (दे ६, ६८)।

विह सक [वृह] पोषण करना। कृ. देखो विहणिज्ज।

विहणिज्ज वि [वृहणीय] पुष्टि-जनक (ठा ६—पत्र ३७५; गाया १, १—पत्र १६)। विहिअ वि [वृहित] पुष्ट; उपचित (हे १, १२८)।

विग्गाइआ } लो [दे] कौट-विशेष, संलग्न विग्गाइ } रहता कौट-युग्म, गुजराती में 'बगाई' (दे ६, ६३)।

विज्ज देखो वीज; 'विज्जं पिव वड्डिया बहवे' (पउम ११, ६६)।

विज्जउर न [वीजपूर] फल-विशेष, एक तरह का नीबू; 'विज्जउरचिन्धिअहि कुणइ पिहा-णाइं सव्वदथ' (सुपा ६३०)।

विज्जय (अप) देखो विइज्ज (भवि)।

विट्टु पुं [दे] वेदा, लड़का, पुत्र (चंड)।

विट्टी लो [दे] वेदी, पुत्री, लड़की (चंड; हे ४, ३३०)।

विट्टु वि [दे. विट्ट] वैठा हुआ, उपविष्ट (श्रीघ ४७१)।

विडाल पुं [विडाल] मार्जार, विलाव, विलार, विल्ला (पि २४१)।

विडालिआ } लो [विडालिका, 'ली] विडाली } विल्ली, मार्जारी, विलारी, विलैया (सम्मत १२२; पि २४१)। देखो विरालिआ।

विडिस देखो वडिस (उप १४२ टी)।

विदिय देखो विइअ (उप २७६)।

विन्ना लो [वेन्ना] भारत की एक नदी (पिड ५०३)।

विचोअ पुं [विचोक] १ लो की शृंगार-चेष्टा-विशेष, इष्ट अर्थ की प्राप्ति होने पर गर्व से उत्पन्न अनादर-क्रिया (परह २, ४—पत्र १३१; गाया १, ८—पत्र १४२; भत्त १०६)। २ न. उपवान, तकिया; ओसीसा; 'सयणोअं तुल्लिअं सविचोअं' (गच्छ ३, ८)।

विचोअ पुं [विचोक] काम-विकार (अणु १३६)।

विचोइअ न [विचोफित] लो की शृंगार-चेष्टा का एक भेद (परह २, ४—पत्र १३१)।

विचोयण न [दे] उपवान, तकिया, ओसीसा (गाया १, १—पत्र १३)।

विभेलय देखो वृहेडय (परण १—पत्र ३१) ।  
विराड पुं [विडाल] ? पिगल-प्रसिद्ध मव्य-  
लघुक पांच मात्रावाला अक्षर-समूह । २ छंद-  
विशेष (पिग) ।

विराल देखो विडाल (सुर १, १८) ।

विरालआ } देखो विडालिआ (सम्मत  
विराली } १२३; पात्र) । २ भुजपरिसर्प-  
विशेष, हाथ से चलनेवाला एक प्रकार का  
प्राणी (सूत्र २, ३, २५) ।

विरालिया स्त्री [विरालिका] स्थल-कन्द-  
विशेष (आचा २, १, ८, ३) ।

विरुद न [विरुद] इल्काव, पदवी (सम्मत  
१४१) ।

विल न [विल] १ रत्न, विवर, सांप आदि  
जन्तुओं के रहने का स्थान (विपा १, ७,  
गउड) । २ कूप, कुआँ (राय) । ३ कोलीकारक  
वि [दे. कोलीकारक] दूसरे को व्यामुग्ध  
करने के लिए विस्वर वचन बोलनेवाला  
(परह १, ३—पत्र ४४) । ४ पंतिया स्त्री  
[पडिस्तका] खान की पद्धति (परह २,  
५—पत्र १५०) ।

विलाड } देखो विडाल (भग; पि २४१) ।  
विलाड }

विलाडिआ देखो विरालिआ (पि २४१) ।

विल्ल पुं [विल्ल] १ वृक्ष-विशेष, बेल का पेड़  
(परण १; उप १०३१ टी) । २ न. बेल का  
फल (पात्र) ।

विल्लल पुं [विल्लल] १ अनार्य देश-विशेष ।  
२ उस देश में रहनेवाली मनुष्य-जाति (परह  
१, १—पत्र १४) । देखो चिल्लल = चिल्लल ।

विस न [विस] कमल आदि के ताल का  
जन्तु, मृगाल (गाया १, १३; कुमा; पात्र) ।  
३ कंठी स्त्री [कण्ठी] बलाका, बक पत्नी की  
एक जाति (दे ६, ६३) । देखो भिस =  
विस ।

विसि देखो विसी (दे १, ८३) ।

विसिणी स्त्री [विसिनी] कमलिनी, कमल  
का गाछ (पि २०६) ।

विसी स्त्री [वृषी] ऋषि का आसन (दे १,  
८३; पि २०६) ।

विह अक [भी] डरना । विहेड (प्राक ६४;  
पि ५०१) ।

विह वि [वृहन्] बड़ा, महान् । ०णर पुं  
[नल] छन्द-विशेष (पिग) ।

विहप्पइ } देखो वहरसइ (हे २, १३७;  
विहप्फइ } १, १३८; २, ६६; पड; कुमा) ।  
विहत्सइ }

विहिअ देखो विहिअ (प्राक ८) ।

विहेल्लग देखो विभेलय (दस ५, २, २४) ।

वीअ देखो विइअ (हे १, ५; २, ७६; सुर १,  
३८; सुपा ४८५) ।

वीअ न [वीज] १ वीज; वीया; 'लाउअवीअं  
इक्कं नासइ भारं गुडत्स जह सहसा' (प्रासू  
१५१; आचा; जी १३; औप) । २ मूल  
कारण; 'सारीरमाणसाणेयदुक्खवीयभूयकम्म-  
वणदहणसहं' (महा) । ३ वीर्य, शरीरान्तर्गत  
सप्त वातुओं में से मुख्य वातु, शुक्र (सुपा  
३६०; वव ६) । ४ 'हो' अक्षर (सिरि  
१६६) । ५ बुद्धि वि [बुद्धि] मूल अर्थ को  
जानने से शेष अर्थों का निज बुद्धि से स्वयं  
जाननेवाला (औप) । ६ मंत वि [वत] वीजवाला (गाया १, १) । ७ रुइ स्त्री [रुचि] एक ही पद से अनेक पद और अर्थों का अनुसंधान द्वारा फैलनेवाली रुचि । २ वि. उक्त रुचिवाला (परण १) । ३ रुइ वि [रुइ] वीज से उत्पन्न होनेवाली वनस्पति (परण १) । ४ वाय पुं [वाप] बुद्ध जन्तु-विशेष (राज) । ५ सुहुम न [सुद्धम] छिलके का अग्र भाग (कप) ।

वीअरथ न [वीजपूरक] फल-विशेष, एक  
तरह का नीवू (मा ३६) ।

वीअजमण न [दे] वीज मलने का खल—  
खलिहान (दे ६, ६३) ।

वीअण पुं [दे] नीचे देखो (दे ६, ६३ टी) ।  
वीअय पुंन [दे. वीजक] वृक्ष-विशेष, असन  
वृक्ष, विजयसार का गाछ (दे ६, ६३; पात्र) ।  
वीअवावय पुं [वीजवापक] विकलेन्द्रिय  
जन्तु की एक जाति (अणु १४१) ।

वीआ स्त्री [द्वितीया] १ तिथि-विशेष, द्वज  
(सम २६; आ २६, रयण २; गाया १,  
१०; सुपा १७१) । २ द्वितीय विभक्ति  
(चिदय ५०६) ।

वीज देखो वीअ = वीज (कुमा; परह २,  
१—पत्र ६६) ।

वीडग न [वीटक] वीडा; पान का बीड़ा,  
सजित ताम्बूल (सुपा ३३६) ।

वीडि } स्त्री [वीटि, ०टी] ऊपर देखो;  
वीडी } 'विल्लदलवीडीश्री कीसेवि मुहम्मि  
पक्खिवइ' (धमवि १४०) ।

वीभच्छ पुं [वीभत्स] साहित्य प्रसिद्ध एक  
रस (अणु १३५) ।

वीभच्छ } वि [वीभत्स] १ घृणोत्पादक,  
वीभत्थ } घृणा-जनक । २ भयंकर, भय-  
जनक (उवा; तंदु ३८; गाया १, २; संवाव  
४४) । ३ पुं. रावण का एक सुभट (पउम  
५६, २) ।

वीयत्तिय वि [दे. वीजयित्] वीज बोनेवाला,  
वपन करनेवाला । २ पुं. पिता; 'वीयं वीयत्ति-  
यस्सेव' (सुपा ३६०; ३६१) ।

वीलय पुं [दे] तांडक, कर्णभूषण-विशेष;  
कान का एक गहना (दे ६, ६३) ।

वीह अक [भी] डरना । वीहइ, वीहेइ (हे  
४, ५३; महा; पि २१३) । वक्र. वीहंत  
(श्रीवभा १६; उप ७६८ टी; कुमा) । कृ.  
वीहियज्य (स ६८२) ।

वीहच्छ देखो वीभच्छ (पि ३२७) ।

वीहण } वि [भीपण, ०क] भय-जनक,  
वीहणग } भयंकर (पि २१३; परह १, १;  
वीहणय } पउम ३५, ५४) ।

वीहविय वि [भीपित] डराया हुआ (सम्मत  
११८) ।

वीहिअ वि [भीत] १ डरा हुआ (हे ४,  
५३) । २ न. भय, डर; 'न य वीहिअं  
ममावि हुं' (आ १४) ।

वीहिर वि [भित्] डरनेवाला (कुमा ६, ३५) ।  
वुआव सक [वाचय्] बुलवाना । संक.  
वुआवइत्ता (ठा ३, २—पत्र १२८) ।

वुइअ वि [उक्त] कथित (सूत्र १, २, २,  
२४; १, १४, २५; परह २, २) ।

वुंदि पुंस्त्री [दे] १ बुम्बन । २ सूकर, सूअर  
(दे ६, ६८) ।

वुंदि स्त्री [दे] शरीर, देह; 'इह वुंदि चइत्ताण  
तत्थ गंतूण सिज्जइ' (ठा १ टी—पत्र २४;  
सुज २०; तंदु १३; सुपा ६५६; धम्म ६  
टी; पात्र) । देखो वोंदि ।

वुंदिणी स्त्री [दे] कुमारी-समूह (दे ६, ६४) ।

बुंदीर पुं [दे] १ महिष, भैंसा । २ वि. महाचंद्र वड़ा (दे ६, ६८) ।

बुंध न [बुध्] १ वृक्ष का मूल । २ कोई भी मूल, मूलमात्र (हे १, २६; पड्) ।

बुंवा स्त्री [दे] चित्ताहट, पुकार (सुपा ५६५) ।

बुंयु पुं [दे] ऊपर देखो (कर ३१) ।

बुंयुअ न [दे] वृन्द, वृय, समूह (दे ६, ६४) ।

बुक्क वि [दे] निस्मृत (वव १) ।

बुक्क अक [गर्ज, बुक्क] गर्जन करना, गरजना । बुक्कइ (हे ४, ६८) ।

बुक्क अक [भप्, बुक्क] धान—कुत्ता का भूकना । बुक्कइ (पड्) ।

बुक्क पुंन [दे] १ तुप, छिलका (सुख १८, ३७) । २ वाद्य-विशेष; 'बुक्कतंबुक्कसंबुक्कसंदुक्कडं' (सुपा ५०) ।

बुक्कण पुं [दे] काक, कौआ (दे ६, ६४; पाश्र) ।

बुक्कस देखो बुक्कस (राज) ।

बुक्का स्त्री [दे] १ मुष्टि (दे ६, ६४; पाश्र) । २ स्त्रीहिमुष्टि (दे ६, ६४) । ३ वाद्य-विशेष; 'दक्काडकहुडुकाबुक्कासंबुक्ककरडिपभिईणं आउ-जाणं' (सुपा १६५) ।

बुक्का स्त्री [गर्जना] गर्जन, गर्जारव (पउम ६, १०८; गउड) ।

बुक्कार पुं [दे. वृद्धार] गर्जन, गर्जना (पउम ७, १०५; गउड) ।

बुक्कास पुं [दे] तन्नुवाय, जुलाहा (आचा २, १, २, २) ।

बुक्कासार वि [दे] भीरु, डरपोक (दे ६, ६५) ।

बुक्किअ वि [गर्जित] जिसने गर्जना की हो वह; 'अह बुक्किया तुह भजा' (कुमा) ।

बुज्झ सक [बुध्] १ जानना, ज्ञान करना, समझना । २ जागना । बुज्झइ (उव) । भूका. बुज्झंसु (भग) । भवि. बुज्झहिइ (औप) । वक्क. बुज्झंत, बुज्झमाण (पिंग; आचा) । संक. बुज्झा (हे २, १५) । क. बुद्ध, बोद्धव्य, बोधव्य (पिंग; कुमा; नव २३; भग; जी २१) ।

बुज्झविअ वि [बोधित] १ जिसको ज्ञान बुज्झविअ कराया गया हो वह । २

जगाया गया (कुप्र ६४; सुपा ४२५; प्राक ६८) ।

बुज्झिअ वि [बुद्ध] ज्ञात, विदित (पाश्र) । बुज्झिअर वि [बोद्ध] १ जाननेवाला । २ जागनेवाला (प्राक ६८) ।

बुडबुड अक [बुडबुडय] बुडबुड आवाज करना; 'सुरा जहा बुडबुडेइ अक्वत्तं' (चैइय ४६२) ।

बुडु अक [बुड्, मस्ज्] हुवना । बुडुइ (हे ४, १०१; उव; कुमा; भवि) । भवि. बुडुंसु (अप) (हे ४, ४२३) । वक्क. बुडुंत, बुडुमाण (कुमा; उप १०३१ टी) । प्रयो, वक्क. बुडुअंत (संबोध १५) ।

बुडु वि [बुडित, मज्ज] हुवा हुआ; निमग्न (धम्म १२ टी; गा ३७; रंभा २३, सुर १०, १८६; भवि); 'धयंबुडुमंडगाई' (पव ४ टी) ।

बुडुण न [बुडन] हुवना (संवे २; कप्पू) ।

बुडुरि पुं [दे] महिष, भैंसा (पड्) ।

बुडुह वि [बुद्ध] बूढ़ा (पिंग) । स्त्री. उंडा, उंडी (काप्र १६७; सिरि १७३) ।

बुण्ण वि [दे] १ भीत, डरा हुआ । २ उद्विग्न (दे ७, ६४ टी) ।

बुत्ती स्त्री [दे] क्लृप्तमती स्त्री (दे ६, ६४) ।

बुद्ध वि [बुद्ध] १ विद्वान्, परिडत, ज्ञात-त्व (सम १; उप ६१२ टी, आ १२; कुप्र ४०; श्रु १) । २ जागा हुआ, जागृत (सुर ६, २४३) । ३ मृत, भविष्य और वर्तमान का जानकार (चैइय ७१३) । ४ विज्ञात, विदित (ठा ३, ४) । ५ पुं. जिन-देव, अहंन्, तीर्थंकर (सम ६०) । ६ बुद्धदेव, भगवान् बुद्ध (पाश्र; दे ७, ५१; उर ३, ७; कुप्र ४४०; धम्मसं ६७२) । ७ आचार्य, सूरि (उत्त १, १७) । पुंत्त पुं [पुत्र] आचार्य-शिष्य (उत्त १, ७) । बोहिय वि [बोधित] आचार्य-बोधित (नव ४३) । माणि वि [मानिन्] निज-को परिडत माननेवाला (सुप्र १, ११, २५) । लय पुं [लय] बुद्ध-मन्दिर (कुप्र ४४२) ।

बुद्ध वि [बोद्ध] १ बुद्ध-भक्त । २ बुद्ध-संन्यधी, बुद्ध का (ती ७; सम्मत ११६) ।

बुद्ध देखो बुज्झ । बुद्ध देखो बुंध (सुज २०) ।

बुद्धंत पुंन [बुध्नान्त] अघो-भाग, नीचे का हिस्सा; 'ता राहू णं देवे चंदं वा सूरं वा गेएहमाणे बुद्धंतेणं गिरिहत्ता बुद्धंतेणं मुयइ' (सुज २०) ।

बुद्धि स्त्री [बुद्धि] १ मति, मेधा, मनोपा, प्रज्ञा (ठा ४, ४; जी ६; कुमा; कप्प; प्रासू ४७) । २ देव-प्रतिमा-विशेष (गाया १, १ टी—पत्र ४३) । ३ महापुराणिक हृद को अधिष्ठात्री देवी (ठा २, ३—पत्र ७२; इक) । ४ छन्द-विशेष (पिंग) । ५ तीर्थंकर । ६ साव्वी (राज) । ७ अहिंसा, दया (पएह २, १) । ८ पुं. इस नाम का एक मन्त्री (उप ८४४) । कूड न [कूट] पर्वत-विशेष का शिखर (राज) । बोहिय वि [बोधित] १ तीर्थंकर—स्त्री-तीर्थंकर से प्रतिबोधित । २ सामान्य साव्वी से बोधित (राज) । मंत वि [मंत] बुद्धिवाला (उप ३३६; सुपा ३७२; महा) । ल पुं [ल] १ एक स्वनाम-प्रसिद्ध श्रेष्ठी (महा) । २ देखो लल (राज) । लल वि [ल] बुद्ध, मूर्ख, दूसरे की बुद्धि पर जीनेवाला; 'तस्स पंडियमाणं (?) णि)स्स बुद्धिस्स दुरण्णो' (ओघभा २६ टी; २७) । वंत देखो मंत (भवि) । सागर, सायर पुं [सागर] विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी का एक सुप्रसिद्ध जैनाचार्य और ग्रन्थकार (सुर १६, २४५; सार्ध ६६; सम्मत ७६) । सिद्ध पुं [सिद्ध] बुद्धि में सिद्धहस्त, संपूर्ण बुद्धिवाला (आवम) । सुंदरी स्त्री [सुन्दरी] एक मन्त्री-कन्या (उप ७२८ टी) ।

बुध देखो बुह (पएह १, ५; सुज २०) ।

बुधुअ अक [बुधुय] 'बु' 'बु' आवाज करना, छाग—बकरा का बोलना । बुधुयइ (कुप्र २४) । वक्क. बुधुयंत (कुप्र २४) ।

बुधुअ पुं [बुद्धुअ] बुलबुला, पानी का बुलका (दे ६, ६५; औप; पिंड १६; णाया १, १; वै ४५; प्रासू ६६; दं १३) ।

बुभुक्खा स्त्री [बुभुक्खा] भूख, खाने की इच्छा (अभि २०७) ।

बुय वि [बुय] बोलनेवाला (सुप्र १, ७, १०) ।

बुयाण देखो बुय ।



बुल वि [दे] बोड, भदन्त, धर्मिष्ठ (पिग १६८)।

बुलंबुला बो [दे] बुलबुला, बुदबुद (दे ६, ६५)।

बुलबुल पुं [दे] ऊपर देखो (पड)।

बुल्ल देखो बोल्ल। बुल्लइ (कुप्र २६; था १४); बुल्लति (प्रामू ४)। प्रयो. बुल्लविइ, बुल्लवेमि, बुल्लवए (कुप्र १२७; सिरि ४४०)।

बुय सक [ब्रू] बोलना। बुयइ (पड; कुमा)। वक्र. चुवंत, बुयाण, बुयाण (उत्त २३, २१; सूत्र १, ७, १०; उत्त २३, ३१)। देखो वू।

बुस न [बुस] १ भूना, यव आदि का कडंगर, नाज का छिलका (ठा ८—पत्र ४१७)। २ तुच्छ वान्य, फल-रहित वान्य (गजड)।

बुसि बो [बुपि, सि] मुनि का आसन। १ म, १ मंत वि [० मन्] संयमी, ब्रती, मुनि (सूत्र २, ६, १४; आचा)।

बुसिआ बो [बुसिका] यव आदि का कडंगर, भूसा (दे २, १०३)।

बुह पुं [बुध] १ ग्रह-विशेष, एक ज्योतिष्क देव (सुर ३, ५३; वनंवि २४)। २ वि. परिष्कत, विद्वान् (ठा ४, ४; सुर ३, ५३; वनंवि २४; कुमा; पात्र)।

बुहपइ } देखो बहत्सइ (हे २, ५३; १३७;  
बुहफइ } पड; कुमा)।  
बुहत्सइ }

बुहुक्ख सक [बुनुक्ख] खाने की इच्छा करना। बुहुक्खइ (हे ४, ५; पड)।

बुहुक्खा देखो बुमुक्खा (राज)।

बुहुक्खअ वि [बुमुक्खित] नूला (कुमा)।

बू सक [ब्रू] बोलना, कहना। बूम, बूया, बूहि (उत्त २५, २६; सूत्र १, १, ३, ६; १, १, १, २)। वि. विति, वेंति, वेमि, बुया (कम्म ३, १२; महा; कप्प)। भूका, अन्ववी (उत्त २३, २१; २२; २५; ३१; ठा ३, २)। वक्र. वितं, वेंत (उत्त ७२८ टी; सुपा ३६०; वित्ते ११६)। संक्र. वूइत्ता (ठा ३, २) देखो वय, वुय।

बूर पुं [बूर] वनस्पति-विशेष (रागाया १, १—पत्र ६; उत्त ३४, १६; कप्प; औप)।

०णालिया, ०नालिआ बो [०नालिका] बूर से भरी हुई नली (राज; भग)।

बूल वि [दे] मूक, वाचा-शक्ति से रहित (पिग १६८ टी)।

बूह सक [बूह] पुष्ट करना। बूहए (सूत्र २, ५, ३२)।

वे देखो वि (वजा १०; हे ३, ११६; १२०; पिग)। ०आसी (अप) बो [०अशीति] वयासी, ८२ (पिग)। ०इंदिय वि [०इन्द्रिय] त्वचा और जीभ ये दो ही इन्द्रियवाला प्राणी (ठा १; भग; त ८३; जी १५)। ०हिय [द्वयादिक] दो दिन का (जीवस ११६)।

वेंट देखो विट (महा)।

वेंत देखो वू।

वेदि देखो वे-इंदिय (पंच ५, ५६)।

वेट्ट देखो विट्ट (आपना १७४)।

वेड } पुं [दे] नौका, जहाज (दे ६, ६५,  
वेडय } सुर १३, ५०)।

वेडा } बो [दे] नौका, जहाज (उप  
वेडिया } ७२८ टी; सिरि ३८२; ४०७;  
वेडी } था १२; वम्म १२ टी); 'पारोहि जलं दारइ अरित्तदंडेहि वेडिन्व' (वमंवि १३२)।

वेड्डा बो [दे] श्मश्रु, दाढ़ी-मूँछ के बाल (दे ६, ६५)।

वेदोणिय वि [द्वैदोणिक] दो द्रोण का, द्रोण-द्वय-परिमित; 'कप्पइ मे वेदोणियाए कंसपाईए हिरण्यभरियाए संववहरित्तए' (उवा)।

वेभेल पुं [वेभेल] विन्ध्याचल के नीचे का एक संनिवेश (भाग ३, २—पत्र १७१)।

वेमासिय वि [द्वैमासिक] दो मास का, दो महीने का संबन्ध रखनेवाला (पउम २२, २८)।

वेलि बो [दे] ल्यूणा, बूँटा (दे ६, ६५; पात्र)।

वेल्ल देखो विल्ल (प्राकृ ५)।

वैल्ला पुं [दे] वैल, बलीवर्द (आवम)।

वेस अक [विश, था] वैठना, अंततं नोक्खामि ति वेसए भुंजए यं तह चैव' (ओघ ५७१)।

वेसक्खिज्ज न [दे] द्वेष्यत्व, रिपुता, दुश्मनाई (दे ७, ७६ टी)।

वेसण न [दे] वचनोप, लोकापवाद, लोक-निन्दा (दे ७, ७५ टी)।

वेहिम वि [दे. द्वैधिक] दो टुकड़े करने योग्य, खण्डनीय (वस ७, ३२)।

वोगिल्ल वि [दे] १ भूपित, अलंकृत। २ पुं. आटोप, आडम्बर (दे ६, ६६)।

वोटण न [दे] चुचुक, स्तन का अग्र भाग (दे ६, ६६)।

वोंड न [द] १ चुचुक, स्तन-वृत्त (दे ६, ६६)। २ फल-विशेष, कपास का फल (औप; तंडु २०)। १ य न [ज] सूती वक्र, सूती कपड़ा (सूत्र ३, २, ७३; औप)।

वोंद न [दे] बुल, मुँह (दे ६, ६६)।

वोंदि बो [दे] १ ह्प। २ मुख, मुँह (दे ६, ६६)। ३ शरीर, देह (दे ६, ६६; पएह १, १; कप्प; औप; उत्त ३५, २०, स ७१२; वित्ते ३१६१; पत्र ५५; पंचा १०, ४)।

वोंदिया बो [दे] शाखा (सूत्र २, २, ४६)।  
वोक्कड } पुं [दे] झग, बकरा; गुजराती में  
वोक्कड } 'वोक्को' (ती २; दे ६, ६६)।  
बो. ०डी (दे ६, ६६ टी)।

वोक्कस पुं [वोक्कस] १ अनार्य देश-विशेष (पव २७४)। २ वरासंकर जाति-विशेष, निपाद से अंबुगी की कुक्षि में उत्पन्न (सुव ३, ४)।

वोक्कसालिय पुं [दे] तन्तुवाय, 'कोट्टागकुलाणि वा गामरक्खकुलाणि वा वोक्कसालियकुलाणि वा' (आचा २, १, २, ३)।

वोक्कार देखो बुक्कार (सुर १०, २२१)।

वोक्किय न [वूत्कृत] गर्जन, गर्जना (पउम ५६, ५४)।

वोगिल्ल वि [दे] चितकवरा, 'फसलं सवलं सारं किममीरं चित्तलं च वोगिल्लं' (पात्र)।

वोट्ट सक [दे] उच्छिष्ट करना, छूटा करना। गुजराती में 'वोट्टु'; 'रयणीए रयणिकरा चरंति वोट्टंति अन्नमाईयं' (सुपा ४६१)।

वोड वि [दे] १ धामिक, धर्मिष्ठ। २ तल्लण, युवा (दे ६, ६६)। ३ मुरिडत-भस्तक; 'एमेव अडइ बोडो', गुजराती में 'बोडो' (पिड २१७)।

वोडघेर न [दे] गुल्म-विशेष (पाय) ।  
 वोडिय पुं [वोटि] १ दिगम्बर जैन संप्र-  
 दाय । २ वि. दिगम्बर जैन संप्रदाय का  
 अनुयायी; 'वोडियसिवभूईओ वोडियलिगस्त  
 होइ उप्पत्ती' (वित्ते १०४१; २५५२) ।  
 वोडिय वि [दे] मुण्डित-मस्तक (?) ;  
 'वोडियमसिए धुवं मरणं' (श्रीषमा ८३ टी) ।  
 वोडुर न [दे] श्मश्रु, दाहो-मूँछ (दे ६, ६५) ।  
 वोडुथा वी [दे] कपटिका, कौड़ी; 'केसरि  
 न लहइ वोडुअवि गय लक्कीति वेप्पति' (हे  
 ४, ३३५) ।  
 वोदर वि [दे] पृथु, विशाल (दे ६, ६६) ।  
 वोदि देखो वोदि (श्रीप) ।  
 वोदह [दे] देखो वोद्रह (पाय) ।  
 वोद्व वि [वोद्व] बुद्ध-भक्त (संवाच ३४) ।  
 वोद्वव्य देखो वुड्म ।  
 वोद्रह वि [दे] तल्प, जवान (दे ७, ८०) ।  
 वोधण न [वोधन] बोध, शिक्षा, उपदेश  
 (सम ११६) ।  
 वोधव्य देखो वुड्म ।  
 वोधि देखो वोहि (ठा २, १—पत्र ४६) ।  
 'सत्त पुं [सत्त्व] सम्यग् दर्शन को प्राप्त  
 प्राणी, अहंन देव का भक्त जीव (मोह ३) ।  
 वोधिअ वि [वोधित] ज्ञापित, अवगमित  
 (धर्मसं ५०६) ।  
 वोद्वड वि [दे] मूक (दश० अगल्य ३०  
 पत्र० २४३) ।  
 वोर न [वदर] फल-विशेष, वेर (गा २००;  
 हे १७०; पड्; कुमा) ।  
 वोरी वी [वदरी] वेर का गाछ (प्राक् ४; हे  
 १, १७०; कुमा; हेका २५६) ।  
 वोल् सक [वोड्य] डुवाना, 'तंबोलो तं  
 वोल्ड जिणवसहिट्टिएण जेण खट्ठी' (सायं  
 ११४); 'बुद्धं वोल्ए अन्नं' (सूक् ६६),  
 'वोलेइ, वोल्ए (संवाच १३), 'केसि च वंचित्तु  
 गले सिलाओ उदरंसि वोल्ति महालयंसि'  
 (सूत्र १, ५, १०), 'वोलेमि' (सिरि १३८) ।  
 'गुल्लामेणं लोए वोलेइ वहु' (उवर १५२) ।

वोल् अक [व्यति + क्रम्] १ पसार होना,  
 गुजरना । २ सक. उल्लंघन करना; 'दूई ए  
 एइ, चंदोवि उगगओ, जामिणीवि वोलेइ' (गा  
 ८५४), 'पुणो तं वंघेण न वोल्ड कयाइ'  
 (श्रावक ३३) । वोल्ए (चंड) । देखो  
 वोल् = गम् ।  
 वोल् पुं [दे] १ कलकल, कोलाहल (दे ६,  
 ६०; भग; भवि; कप्प; उप उप ५०६),  
 'हासवोलवहुला' (श्रीप) । २ समूह; 'कमडा-  
 सुरेण रइयम्मि भीसणे पलयतुल्लजलवोले'  
 (भाव १; कुलक ३४) ।  
 वोल्म पुंन [दे. त्रोट] १ मज्जन, डूवना ।  
 २ कर्पण, खींचाव; 'उच्चूलं वोल्गं पज्जेति'  
 (विपा १, ६—पत्र ६८) ।  
 वोल्मिअ वि [त्रोटित] डुवाया हुआ (वज्जा  
 ६८) ।  
 वोल्मिदी वी [दे] लिपि-विशेष, ब्राह्मी लिपि  
 का एक भेद; 'माहेसरोलिवी दामिलिवी वोल्मि-  
 दिवीवी' (सम ३५) ।  
 वोल् सक [कथय] बोलना, कहना । वोल्ड  
 (हे ४, २ प्राक् ११६; सुर ८, १६७;  
 भवि) । कर्म. वोल्मिअइ (अप) (कुमा) ।  
 क्. वोल्मिअइ (अप) (कुमा) । प्रयो. वोल्मा-  
 वइ (कुमा) ।  
 वोल्मअ पुं [कथन] बोल, वचन (गा ६०३) ।  
 वोल्मअ वि [कथयित्तु] बोलने का स्वभाव-  
 वाला (हे ४, ४४३) ।  
 वोल्म वी [कथा] वार्ता, बात; 'नीयवोल्लाए'  
 (उप १०१५) ।  
 वोल्मविय वि [कथित] बुलवाया हुआ (स  
 ४६१; ६६६) ।  
 वोल्मिअ वि [कथित] १ उक्त । २ न, उक्ति  
 (भवि; हे ४, ३८३) ।  
 वोव्य न [दे] क्षेत्र, क्षेत्र (दे ६६) ।  
 वोह सक [वोधय] १ समझाना, ज्ञान  
 कराना । २ जगाना । वोहेइ (उव) । कर्म.  
 वोहिज्जइ (उव) । वक्. वोहिंत, वोहेंत  
 (सुर १५, २४६; महा) । कवक्. वोहिजंत  
 (सुर २, १४५; ८, १६५) । हेक्. वोहेडं  
 (अज्क १७६) ।

वोह पुं [वोध] १ ज्ञान, समझ (जी १) ।  
 २ जागरण (कुमा) ।  
 वोहग देखो वोहय (दं १) ।  
 वोहण देखो वोधण (उप २०६; सुर १, ३७;  
 उवर १) ।  
 वोहय वि [वोधक] बोध देनेवाला, ज्ञान-  
 दाता (सम १; राया १, १; भग; कप्प) ।  
 वोहहर पुं [दे] मागव, स्तुति-पाठक (दे ६,  
 ६७) ।  
 वोहारी वी [दे] ब्रह्मरो, संमार्जनी, भाइ,  
 (दे ६, ६७) ।  
 वोहि वी [वोधि] १ शुद्ध धर्म का लाभ,  
 सद्धर्म की प्राप्ति; 'डुल्लहा वोहो' (उत्त ३६,  
 २५८), 'वोहो जिणेहि भणिया भवंतरे सुद्ध-  
 धम्मसंपत्ती' (चेइय ३३२; संवाच १४; सम  
 ११६; उप ४८१ टी) । २ अहिंसा, अनुकम्पा,  
 दया (परह २, १) । देखो वोधि ।  
 वोहिअ वि [वोधित] १ ज्ञापित, समझाया  
 हुआ (भग) । २ विकासित, विबोधित; 'रवि-  
 किरणतरुणवोहियसहस्सपत्त—' (कप्प) ।  
 वोहिअ पुं [वोधिक] मनुष्य चुरानेवाला  
 चोर (निच् १; चेइय ४४६) ।  
 वोहित देखो वोह = बोधय ।  
 वोहिग देखो वोहिअ = बोधिक (राज) ।  
 वोहित्य पुंन [दे] प्रवहण, जहाज, यानपात्र,  
 नौका (दे ६; ६६; स २०६; चेइय २६४;  
 कुप्र २२२; सिरि ३८३; सम्मत्त १५७;  
 सुपा ६४; भवि) ।  
 वोहित्थिय वि [दे] प्रवहण-स्थित (वज्जा  
 १५८) ।  
 'वभंस देखो भंस (सुपा ५०६) ।  
 'वभमर देखो भमर (नाट—मुद्रा ३६) ।  
 'वभास देखो अवभास; 'किंतु अइदूहवा सा  
 दिट्ठिभासेवि कुणइ न हुकोइ' (सुपा ५६७) ।  
 'विभ वि [भित्तु] भेदन करनेवाला, नाश-  
 कर्ता; 'सगड्ढिभ' (आचा १, ३, ४, १) ।  
 व्रो (अप) देखो वू । व्रोहि (प्राक् १२१) ।

## भ

भ पुं [भ] १ श्रोत्र-स्थानीय व्यञ्जन वरुण-विशेष (प्रायः प्रामा) । २ पिगल-प्रसिद्ध श्रादि-गुरु श्रौर दो ह्रस्व अक्षरों की संज्ञा, भगण (पिग) । ३ न. नक्षत्र (सुर १६, ४३) । ०आर पुं [कार] १ 'भ' अक्षर । २ भगण (पिग) । ०गण पुं [गण] भगण (पिग) ।

भइ देखो भय = भू ।

भइ ली [भृति] वेतन, तनखाह (राया १, ८—पत्र १५०; विपा १, ४; उवा) । देखो भुइ ।

भइअ वि [भक्त] १ विभक्त (श्रावक १८५; सम ७९) । २ खरिडतः 'श्रुगलसंज्ञासंज्ञम्-एसमइयं पुढो पवरं' (पंच २, १२; औप) । ३ विकल्पित (वव ६) ।

भइअ न [भक्त] भागाकार (वव १) ।

भइअ } देखो भय = भू ।  
भइअव्व }

भइअ } वि [भृत्तिक] कर्मकर, नौकर,  
भइग } चाकर (राय २१) ।

भइगि } ली [भगिनी] बहिन, स्वसा  
भइगिआ } (सुपा १५; स्वप्न १५; १७;  
भइणी } विपा १, ४; प्रासू ७८; कुल २३५; कुमा) । ०वइ पुं [पति] बहनोई (सुपा १५; ५३२) । ०सुअ पुं [सुत] नागिनैय, भानजा (सुपा १७) । देखो वहिणी ।

भइरव वि [भैरव] १ भयंकर, भीषण, भय-जनक (पाय; सुपा १८२) । २ पुं. नाट्यादि-प्रसिद्ध एक रस, भयानक रस । ३ महादेव, शिव । ४ महादेव का एक अवतार । ५ राग-विशेष, भैरव राग । ६ नद-विशेष (हे १, १५१; प्राप्र) । देखो भैरव ।

भइरवी ली [भैरवी] शिव-पत्नी, पार्वती (गउड) ।

भइरहि पुं [भगीरथि] सगर चक्रवर्ती का एक पुत्र, भगीरथ (पउम ५, १७५) ।

भइल वि [दे] भया, जात (रंभा ११) ।

भउम्हा (शौ) देखो भमुहा (पि २५१) ।

भउहा (अप) देखो भमुहा (पिग) ।

भएयव्व देखो भय = भू ।

भंकार पुं [भङ्कार] भनकार, अव्यक्त आवाज विशेष (उप पृ ८६) ।

भंकारि वि [भङ्कारिन्] भनकार करनेवाला (सण) ।

भंग पुं [भङ्ग] १ भांगना, खण्ड, खण्डन (श्राघ ७८८; प्रासू १७०; जी १२; कुमा) । २ प्रकार, भेद, विकल्प (भग; कम्म ३, ५) । ३ विनाश (कुमा; प्रासू २१) । ४ रचना-विशेष; 'तरंगरंगंतभंग' (कप्प) । ५ परा-जय । ६ पलायन (पिग) । ०रय न [रत] मैथुन-विशेष (वज्जा १०८) ।

भंग पुं [भृङ्ग] श्रायं देश-विशेष, जिसकी राजधानी प्राचीन काल में पावापुरी थी (इक) ।

भंग (अप) देखो भरग = भग्न (पिग) ।

भंगरय पुं [भृङ्गरज, भृङ्गारक] १ पौधा विशेष, भृङ्गरज, भंगरा, भंगरैया । २ न. भंगरा का फूल (वज्जा १०८; सुपा ३२४) ।

भंगा ली [भङ्गा] १ वनस्पति-विशेष, पाट, कुष्ठा; 'कप्पइ एिगंगवाए वा एिगंगवीए वा पंच कथाई धारित्तए वा परिहरेत्तए वा, तं जहा—जंगिए भंगिए साएए पोत्तिए त्तिरोड-पट्टए एामं पंचमए' (ठा ५, ३—पत्र ३३८) । २ वाद्य-विशेष; 'पडहहुडु'कुडु'डु-क्कामेरीभंगापहुदिभूरिवज्जभंडतुमुल' (विक्र ८७) ।

भंगि ली [भङ्गि] १ प्रकार, भेद (हे ४, ३३६; ४११) । २ व्याज, दून, बहाना; 'सहिभंगिअण्णअसन्माविआवराहाए' (गा ६१३) । ३ विच्छिन्ति, विच्छेद (राज) । ४ ली. देश-विशेष; 'पावा भंगी य' (पत्र २७५; विचार ४६) ।

भंगिअ न [भङ्गिक, भङ्गिक] १ भंगा-मय, एक तरह का वस्त्र, पाट का बना हुआ कपड़ा (ठा ३, ३; ५, ३—पत्र १३८; कस) । २ शास्त्र-विशेष; 'जोगतिगस्तवि भंगियमुत्ते किरिया जयो भणिया' (चैय २४५) ।

भंगिह वि [भङ्गवत्] प्रकारवाला, भेद-पतित; 'पढमभंगिह्ला' (संज्ञोच ३२) ।

भंगी ली [भङ्गी] देखो भंगि (हे ४, ३३६; गा ६१३; विचार ४६) ।

भंगी ली [भृङ्गी] वनस्पति-विशेष;—१ भंग, विजया । २ अतिविषा, अतिस का गद्य (पएण १—पत्र ३६; पएण १०—पत्र ५३१) ।

भंगुर वि [भङ्गुर] १ स्वयं भांगनेवाला, वित्तश्वर, विनाश-शील; 'तडिदंडाडेवरभंगुराई ही विसयसोक्खाई' (उप ६ टी; पएह १, ४; सुर १०, १८; स ११४; धर्मसं ११७१; विवे ११४) । २ कुटिल, वक्र; 'कुडिलं वंके भंगुरं' (पाघ) ।

भंछा देखो भत्या (राज) ।

भंज तक [भञ्ज] १ भांगना, तोड़ना । २ पलायन करना, भगाना । ३ पराजय करना । ४ विनाश करना । भंजइ, भंजए (हे ४, १०६; पड; पि ५०६) । भवि. भंजित्त्सइ (पि ५३२) । कर्म. भज्जइ (भग; महा) । वक्र. भंजंत (गा १६७; सुपा ५६०) । क्वक. भजंत, भज्जमाण (सि ६, ४४; सुर १०, २१७; स ६३) । संक्र. भंजिअ, भंजिअ, भंजिऊण, भंजिऊणं, भंजेऊण (नाट; पि ५७६; महा; पि ५८५; महा), भज्जिअ (अप) (हे ४, ३६५) । हेक. भंजित्तए (राया १, ८), भंजणहं (अप) (हे ४, ४११ टि) ।

भंजअ } वि [भञ्जक] भांगनेवाला, भंग  
भंजग } करनेवाला (गा ५५२; पएह १, ४) । २ पुं. वृद्ध, पेड़; 'भंजगा इव संनिवेत्तं नो चयति' (आवा) ।

भंजण न [भञ्जन] १ भंग, खण्डन (पत्र ३८; सुर १०, ६१) । २ विनाश (सुपा ३७६; पएह १, १) । ३ वि. भंजन करनेवाला, तोड़नेवाला, विनाशक; 'भवभंजए' (सिदि ५४६), 'रिउसंगभंजणए' (कुमा) । ली. ०णी (गा ७४५) ।

भंजणा ली [भञ्जना] ऊपर देखो, 'विणामो-वयारम- (१२ मा-) एास्त भंजणा पूयणा गुव्वणस्स' (विसे ३४६६; निवृ १) ।

भंजाविअ } वि [भञ्जित] १ भंग्या हुआ,  
भंजिअ } तुड़वाया हुआ; (स ५४०) । २  
भंग्या हुआ (पिंग) । ३ आक्रान्त (तंडु ३८) ।  
भंजिअ देखो भग्ग = भग्न (कुमा ६, ७०;  
पिंग; भवि) ।  
भंडं सक [भाण्डय्] भंडारा करना, संग्रह  
करना, इकट्ठा करना । भंडेइ (सुख २, ४५) ।  
भंडं सक [भण्ड्] भंडना, भत्तना  
करना, गाली देना । भंडइ (सए) । वक्क.  
भंडंत (गा ३७६) । संकू. भंडिउं (वव १) ।  
भंडं पुं [भण्ड] १ विट्, भड़ुआ (पव ३८) ।  
२ भंड, बहुवचिया, मुख आदि के विकार से  
हूसाने का काम करनेवाला, निर्लज्ज  
(आव ६) ।  
भंडं न [दे] १ वृत्ताक, वैगन, भंडा (दे ६,  
१००) । २ पुं. मागध, स्तुति-पाठक । ३  
सखा, मित्र । ४ दौहित्र, पुत्री का पुत्र (दे  
६, १०६) । ५ पुं. मरुडन, आभूषण,  
गहना (दे ६, १०६; भग; औप) । ६ वि.  
छिन्न, मूर्धा, सिर-कटा (दे ६, १०६) । ७  
न. घुर, छुरा । ८ छुरे से मुरडन (राज) ।  
भंडं पुं [भाण्ड] १ वरतन, वासन, पात्र;  
भंडग } दुग्गइदुहंभंडे षडइ अक्खंडे (संवेग  
१४; दे ३, २१; था २७; सुपा १६६) ।  
२ क्रयाणक, पण्य, वेचने की वस्तु (आया  
१, १—पत्र ६०; औप; पएह १, १; उवा;  
कुमा) । ३ गृह, स्थान (जोव ३) । ४ वक्क-  
पात्र आदि घर का उपकरण (ठा ३, १;  
कप्प; औव ६६६; आया १, ५) ।  
भंडणं न [दे. भण्डन] १ कलह, वाक्-  
कलह, गाली-प्रदान (दे ६, १०१; उवा;  
महा; आया १, १६—पत्र २१३; औव  
२१४; गा ६६६; उप ३३६; तंडु ५०) ।  
२ क्रोध, गुस्सा (सम ७१) ।  
भंडणां वी [भण्डना] भंडना, गाली-  
प्रदान (उप ३३६) ।  
भंडय देखो भंड = भण्ड (हे ४, ४२२) ।  
भंडय देखो भंडग; 'पायसधयदहियाणं भरि-  
त्तणं भंडए गए' (महा ८०, २४; उत्त  
२६, ८) ।  
भंडवेआलिअ वि [भाण्डवैचारिक] करि-  
याना वेचनेवाला (आणु १४६) ।  
भंडा वी [दे] सम्बोधन-सूचक शब्द (संक्षि  
४७) ।

भंडाआर } पुं [भाण्डागार] भंडार, कोठा  
भंडागार } या कोठार, बखार (मुद्रा १४१; स  
१७२; सुपा २२१; २६) ।  
भंडागारि } पुं वी [भाण्डागारिन्, क]  
भंडागारिअ } भंडारी, भंडार का अध्यक्ष  
(आया १, ८; कुप्र १०८) । वी. रिणी  
(आया १, ८) ।  
भंडार देखो भंडागार (महा) ।  
भंडार पुं [भाण्डकार] वरतन बनानेवाला  
शिल्पी (राज) ।  
भंडारि } देखो भंडागारि (स २०७; सुर  
भंडारिअ } ४, ६०) ।  
भंडिअ पुं [भाण्डिक] भंडारी, भंडार का  
अध्यक्ष (सुख २, ४५) ।  
भंडिआ वी [भाण्डिका] स्थाली, थलिया  
(ठा ८—पत्र ४१७) ।  
भंडिआ } वी [दे] १ गंत्री, गाड़ी (वृह ३;  
भंडी } दे ६, १०६; आवम; निच ३;  
वव ६) । २ शिरोप वृक्ष । ३ अश्वी, जंगल ।  
४ असती, कुलटा (दे ६, १०६) ।  
भंडीर पुं [भण्डीर] वृक्ष-विशेष, शिरोप वृक्ष  
(कुमा) । वडिसय; वडेंसय न [वडेंसक]  
मथुरा नगरी का एक उद्यान; 'मथुराए  
णयरीए भंडि (? डीर)वडेंसए उज्जाणे'  
(राज; आया २—पत्र २५३) । 'वण न  
[वण] १ मथुरा का एक वन (ती ७) ।  
२ मथुरा का एक चैत्य (आवम) ।  
भंडुं न [दे] मुरडन (दे ६, १००) ।  
भंडुं देखो भंड = भाण्ड (भवि) ।  
भंत वि [भ्रान्त] १ घुमा हुआ; 'भंतो जसो  
भेईणी (ए)' (पउम ३०, ६८) । २ भ्रान्ति-  
युक्त, भ्रमवाला, भ्रूला हुआ (दे १, २१) ।  
३ अपेत, अनवस्थित (विसे ३४४८) ।  
४ पुं. प्रथम नरक का तीसरा नरकेन्द्रक—  
नरकावास-विशेष (देवेन्द्र ३) ।  
भंत वि [भगवत्] भगवान्, ऐश्वर्य-शाली  
(ठा ३, १; भग; विसे ३४४८—३४५६) ।  
भंत वि [भदन्त] १ कल्याण-कारक । २  
सुख-कारक । ३ पूज्य (विसे ३४३६; कप्प;  
विपा १, १; कस; विसे ३४७४) ।  
भंत वि [भजत्] सेवा करता (विसे  
३४४६) ।

भंत वि [भान्, भ्राजत्] चमकता,  
प्रकाशता (विसे ३४४७) ।  
भंत वि [भवान्त] भव का—संसार का  
श्रन्त करनेवाला, मुक्ति का कारण (विसे  
३४४६) ।  
भंत वि [भयान्त] भय-नाशक (विसे ३४४६) ।  
भंति वी [भ्रान्ति] भ्रम, मिथ्या ज्ञान (वमंसं  
७२१; ७२३; सुपा ३१२; भवि) ।  
भंति (अप) वी [भक्ति] भक्ति, प्रकार  
(पिंग) ।  
भंभल वि [दे] १ अग्रिय, अनिष्ट (दे ६,  
११०) । २ मूर्ख, अज्ञान, पागल, वेकूफ  
(दे ६, ११०; सुर ८, १६६) ।  
भंभसार पुं [भम्भसार] भगवान् महावीर  
के समकालीन और उनके परम भक्त एक  
मगवाविपति, ये श्रेणिक और विम्बसार के  
नाम से भी प्रसिद्ध थे (आया १, १३;  
औप) । देखो भिंभसार, भिंभिसार ।  
भंभा वी [दे. भम्भा] १ वाद्य-विशेष, मेरी  
(दे ६ १००; आया १, १७; विसे ७८ टी;  
सुर ३, ६६; सम्मत्त १०६; राय; भग ७,  
६) । २ 'भा' 'भा' की आवाज (भग ७, ६—  
पत्र ३०५) ।  
भंभी वी [दे] १ असती, कुलटा (दे ६,  
६६) । २ नीति-विशेष (राज) ।  
भंस अक [भ्रंश] १ नीचे गिरना । २ नष्ट  
होना । ३ स्वलित होना । भंसइ (हे ४,  
१७७) ।  
भंस पुं [भ्रंश] १ स्वलना । २ विनाश  
(सुपा ११३; सुर ४, २३०), 'संपाडइ  
संपयाभंस' (कुप्र ४१) ।  
भंसग वि [भ्रंशक] विनाशक (वव १) ।  
भंसण न [भ्रंशान] ऊपर देखो; 'को ए  
उवाओ जिणवम्म-भंसणे होज्ज एईए' (सुपा  
११३; सुर ४, १५) ।  
भंसणा वी [भ्रंशाना] ऊपर देखो (पएह  
२, ४ श्रावक ६५) ।  
भक्ख सक [भक्षय्] भक्षण करना, खाना ।  
भक्खेइ (महा) । कर्म. भविलज्जइ (कुमा) ।  
वक्क. भक्खंत (सं १०२) । हेक्क. भक्खिअउं  
(महा) । क. भक्ख, भक्खेय, भक्खणिज्ज

(पउम ८४, ४; सुपा ३७०; णाया १, १०; सुर १४, ३४; आ २७)।

भक्ख पुं [भक्ष] भक्षण, भोजन; 'भो कीर खीरसकरदक्खाभक्खं करहि ताव' (सुपा २६७)।

भक्ख देखो भक्ष = भक्ष्य।

भक्ख पुंन [भक्ष्य] खण्ड-खाद्य, चीनी का बना हुआ खाद्य द्रव्य, मिठाई (सुज्ज २० टी)।

भक्खण वि [भक्षक] भक्षण करनेवाला (कुप्र २६)।

भक्खण न [भक्षण] १ भोजन (पएण २८)। २ वि. खानेवाला; 'सव्वमक्खणो' (आ २८)।

भक्खणया वी [भक्षणा] भक्षण, भोजन (उवा)।

भक्खर पुं [भास्कर] १ सूर्य, रवि (उत्त २३, ७८; लहुअ १०)। २ अग्नि, वहि। ३ अकं-वृक्ष (चंड)।

भक्खराभ न [भास्कराभ] १ गोत्र-विशेष, जो गौतम गोत्र की शाखा है। २ पुं-व्री. उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०)।

भक्खवाण न [भक्षण] खिलाना (उप १५० टी)।

भक्खि वि [भक्षिन्] खानेवाला (श्रीप)।

भक्खिय वि [भक्षित] खाया हुआ (भवि)।

भक्खेय देखो भक्ख = भक्ष्य।

भग पुंन [भग] १ ऐश्वर्य। २ रूप। ३ श्री। ४ यश, कीर्ति। ५ धर्म। ६ प्रयत्न;

'इत्तरियह्वसिरिजसधम्मपयत्ता मया भगाभिक्खा' (वित्ते १०४८; चेइय २८८)। ७ सूर्य, रवि। ८ माहात्म्य। ९ वैराग्य। १० मुक्ति, मोक्ष। ११ वीर्य। १२ इच्छा (कप्प-टी)। १३ ज्ञान (प्राप्ता)। १४ पूर्वाकाल्युनी नक्षत्र (अणु)। १५ वी. योनि, उत्पत्ति-स्थान

(पएह १, ४—पत्र ६८; सुज्ज १०, ८)। १६ देव-विशेष, पूर्वाकाल्युनी नक्षत्र का अविष्ठाता देव, ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३; सुज्ज १०, १२)। १७ गुदा और अण्ड-कोश के बीच का स्थान (वह ३)। 'दत्त पुं

[दत्त] नृप-विशेष (हे ४, २६६)। 'व देखो वंत (भग; महा)। 'वई वी [वती]

१ ऐश्वर्यादि-सम्पन्ना, पूज्या (पडि)। २

भगवती-सूत्र, पाँचवाँ जैन अंग-ग्रन्थ (पंच ५, १२५)। वंत वि [°वत्] ऐश्वर्यादि-गुण-सम्पन्न। २ पुं. परमेश्वर, परमात्मा (कप्प; वित्ते १०४८; प्राप्ता)।

भगंदर पुं [भगन्दर] रोग-विशेष—गुदा के भीतरी भाग में होनेवाला एक प्रकार का फोड़ा (णाया १, १३; विपा १, १)।

भगंदरि वि [भगन्दरिन्] भगन्दर रोगवाला (आ १६; संवोव ४३)।

भगंदरिअ वि [भगन्दरिअ] ऊपर देखो (विपा १, ७)।

भगंदल देखो भगंदर (राज)।

भगिणी देखो वहिणी (णाया १, ८; कप्प; कुप्र २३६; महा)।

भगिरहि } पुं [भगीरथि] सगर चक्रवर्ती  
भगीरहि } का एक पुत्र, भगीरथ (पउम ५, १७६; २१५)।

भग्ग वि [भग्ग] १ खण्डित, भांगा हुआ (सुर २, १०२; दं ४६; उवा)। २ पराजित। ३ पलायित, भागा हुआ; 'जइ भग्गा पारख्खडा' (हे ४, ३७६; ३५४; महा, वव २)। 'इ पुं [°जित्] क्षत्रिय परिव्राजक-विशेष (श्रीप)।

भग्ग वि [दे] लिप्त, पोता हुआ (दे ६, ६६)।

भग्ग न [भाग्य] नसीब, दैव (सुर १३, १०५)।

भग्गव पुं [भार्गव] १ ग्रह-विशेष, शुक्र ग्रह (पउम १७, १०८)। २ ऋषि-विशेष (समु १८१)।

भग्गवेस न [भार्गवेश] गोत्र-विशेष (सुज्ज १०, १६ टी; इक)।

भग्गिअ (अप)। देखो भग्ग = भग्न (पिपा)।

भच्चं पुं [दे] भागिनेय; मानजा (पड्)।

भच्चिअ वि [भत्तिसत्] तिरस्कृत (दे १, ८०; कुमा ३, ८६)।

भज देखो भय = भज्। वक्क. भजंत, भजंत, भजमाण, भजेमाण (पड्)।

भज्ज सक [भ्रज्ज] पकाना, भुनाना। भज्जंत, भज्जंत (सुअग्नि ८१; विपा १, ३)। वक्क. भजंत, भजंत (पिड ५७४; विपा १, ३)।

भज्ज देखो भंज (आचा २, १, १, २)।

भज्ज देखो भय = भज्।

भज्जंत देखो भंज।

भज्जण } न [भ्रज्जण] १ भुनन, भुनाना  
भज्जणय } (पएह १, १; अनु ५)। २ भुनने का पात्र (सुअग्नि ८१; विपा १, ३)।

भज्जमाण देखो भंज।

भज्जा वी [भार्जा] पत्नी, वी (कुमा; प्रासू ११६)।

भज्जि वी [भर्जिका] देखो भज्जिआ।

भज्जिअ देखो भग्ग = भग्न; 'तरणियं वा द्विवाडि अभिककंतभज्जियं पहाए' (आचा २, १, १, २)।

भज्जिअ वि [भृट्, भर्जित] भुना हुआ, पकाया हुआ (गा ५५७; आचा २, १, १, ३; विपा १, २, उवा)।

भर्जिआ वी [भर्जिका] १ भाजी, शाक-मेद, पत्राकार तरकारी (पत्र २५६)। २ पथ्यदत्त, मार्ग-भोजन (कल्पसाय्य गा० ३६१८)।

भर्जिम वि [भ्रज्जिम] भुनने योग्य (आचा २, ४, २, १५)।

भर्जिर वि [भर्जित्] भांगनेवाला, 'फारफल-भारभज्जिरसाहासयसंकुलो महासाही' (धर्मवि ५५; सण)।

भज्जंत देखो भज्ज = भ्रज्ज्।

भट्ट पुं [भट्ट] १ मनुष्य-जाति-विशेष, स्तुति-पाठक की एक जाति, भाट; 'जयजयसदक-रंतसुभट्ट' (सिरि १५५; सुपा २७१; उप १२०)। २ वेदाभिन्न परिणत, ब्राह्मण, विप्र (उप १०३१ टी)। ३ स्वामित्व, मालिकपन, मालिकियत (प्रति ७)।

भट्टारक } पुं [भट्टारक] १ पूज्य, पूजनीय  
भट्टारक } (आव ३; महा)। २ नाटक की भाषा में राजा (प्राक ६५)।

भट्टि देखो भत्तु = भट्ट (ठा ३, १; सम ८६; कप्प; स १४४; प्रति ३; स्वप्न १५)।

भट्टिअ पुं [दे] विष्णु, श्रीकृष्ण (हे २, १७४; दे ६, १००)।

भट्टिणी वी [भर्त्री] स्वामिनी, मालिकिन (स १३४)।

भट्टिणी वी [भट्टिनी] नाटक की भाषा में वह रानी जिसका अभिषेक न किया गया हो (प्रति ७)।

भट्ट (शौ) देखो भट्टारय (प्राक् ६५) ।  
 भट्ट वि [भ्रष्ट] १ नीचे गिरा हुआ । २ च्युत, स्वलित (महा; द्र ४३) । ३ नष्ट (सुर ४, २१५; णाया १, ६) ।  
 भट्ट पुंन [भ्राष्ट] भर्जन-पात्र, भुनने का वतन (दे ५, २०); 'भट्टद्वियचणुगो विव तयणीए कोस तडकडसि' (सुर ३, १४८) ।  
 भट्टि } ली [दे] धूलि-रहित मार्ग (श्रीष  
 भट्टी } २३; २४ टी; भग ७, ६ टी—पत्र ३०७) ।  
 भड पुं [भट] १ बोढा, लड़ाका (कुमा) । शूर, वीर (से ३, ६; णाया १, १) । ३ म्लेच्छों की एक जाति । ४ वणं-संकर जाति-विशेष, एक नीच मनुष्य-जाति । ५ राक्षस (हे १, १६५) । १ खड्ग आ ली [खादिता] दीक्षा-विशेष (ठा ४, ४) ।  
 भडक पुंन्त्री [दे] आडम्बर, तडक-भडक, टीम-टाम, ठाठमाठ (सट्टि ४४ टी) । ली. °का (उव) ।  
 भडग पुं [भटक] १ अनार्य देश-विशेष । २ उस देश में रहनेवाली एक म्लेच्छ-जाति (पएह १, १—पत्र १४; इक) । देखो भड ।  
 भडारय (अप) देखो भट्टारय (भवि) ।  
 भडित्त न [भटिन्न] शूल-पत्र मांसादि, कवाव (स २६२; कुप्र ४३२) ।  
 भडिल वि [दे] संबोधन-सूचक शब्द (संवि ४७) ।  
 भण सक [भण्] कहना, बोलना, प्रतिपादन करना । भणइ, भणइ (हे ४, २३६; कुमा) । कर्म. भणइ, भणए, भणिज्जइ (पि ५४८, पड; पिंग) । भूका, भणीअ (कुमा) । भवि. भणहि, भणिस्सं (कुमा) । वक. भणंत, भणमाण, भणमाण (कुमा; महा; सुर १०, ११४) । कवक. भणंत, भणिज्जंत, भणिज्जमाण, भणीअंत, भणमाण (कुमा; पि ५४८; गा १४५) । संक. भणिअ, भणिउं, भणिऊण (कुमा; पि ३४६) । हेक. भणिउं, भणिउं (पउम ६४, १३; पि ५७६) । क. भणिअव्व, भणियव्व (मज्जि ३८; सुपा ६०८) । कवक. भणंत, भणमाण (सुर २, १६१; उव पृ २३; उव १०३१ टी) ।

भणग वि [भण, °क] प्रतिपादन करनेवाला (एदि) ।  
 भणग न [भणन] कथन, उक्ति (उप ५५३; सुपा २८३; संबोध ३) ।  
 भणाविअ वि [भाणित] कहलाया हुआ (सुपा ३५८) ।  
 भणिअ वि [भणित] कथित (भग) ।  
 भणिइ ली [भणिति] उक्ति, वचन (सुर ६, १४५; सुपा २१४; धर्मवि ५८) ।  
 भणिर वि [भणित्] कहनेवाला, वक्ता (गा २६७; कुमा; सुर ११, २४४; आ १६) । ली. °री (कुमा) ।  
 भणेमाण देखो भण ।  
 भणण सक [भण्] कहना, बोलना । भणणइ (वात्वा १४७) ।  
 भणणमाण देखो भण = भण् ।  
 भत्त पुंन [भक्त] १ आहार, भोजन । २ अन्न, नाज (विपा १, १; ठा २, ४; महा) । ३ श्रोतन, भात (प्राभा) । ४ लगातार सात दिनों का उपवास (संबोध ५८) । ५ वि. भक्ति-युक्त, भक्तिमान्; 'सा सुलसा वालप्पभित्ति चव हरिणगेमसीभत्तया यावि होत्वा' (अंत ७; उप पृ ६६; महा; पिंग) । 'कहाँ ली [°कथा] आहार-कथा, भोजन-संबन्धी वात्तां (ठा ४, ४) । °च्छंद, °छंद पुं [°च्छन्द] रोग-विशेष, भोजन की अवधि; 'कच्छू जरो खासो सासो भत्तच्छंदो अक्खिदुक्खं' (महा; महा—टि) । °पच्चक्खण-न [°प्रत्याख्यान] आहार-त्याग-रूप अनशन, अनशन का एक भेद, मरण का एक प्रकार (ठा २, ४—पत्र ६४; श्रौप ३०, २) । °परिण्णा; °परिन्ना ली [°परिन्ना] १ वही पूर्वोक्त अर्थ (भत्त १६६, १०; पव १५७) । २ ग्रंथ-विशेष (भत्त १) । °पाणय न [°पानक] आहार-पानी, खान-पान (विपा १, १) । °वेला ली [°वेला] भोजन-समय (विपा १, १) ।  
 भत्त वि [भूत] उत्पन्न, संजात (हे ४, ६०) ।  
 भत्ति देखो भत्तु (पिंग) ।  
 भत्ति ली [भक्ति] १ सेवा, वित्त, आदर (णाया १, ८—पत्र १२२; उव; श्रौप; प्रातू २६) । २ रचना (वित्ते १६३१; श्रौप;

सुपा ५२) । ३ एकाग्र-वृत्ति-विशेष (आव २) । ४ कल्पना, उपचार (धर्मसं ७४२) । ५ प्रकार, भेद (ठा ६) । ६ विच्छित्ति-विशेष (श्रौप) । ७ अनुराग (धर्म १) । ८ विभाग । ९ अवयव । १० श्रद्धा (हे २, १५६) । 'मंत, °वंत वि [°मत्] भक्तिवाला, भक्त (पउम ६२, २८; उव; सुपा १६०, हे २, १५६; भवि) ।  
 भत्तिज्ज पुं [भ्रातृव्य] भतीजा, भाई का पुत्र (सिदि ७१६; धर्मवि १२७) ।  
 भत्ती नीचे देखो ।  
 भत्तु पुं [भर्तृ] १ स्वामी, पति, भवार (णाया १, १६—पत्र २०७); 'एणववहू उव-रत्तभत्तुया' (णाया १, ६; पात्र; स्वप्न ५६) । २ अधिपति, अध्यक्ष । ३ राजा, नरेश । ४ वि. पोषक, पोषण करनेवाला । ५ धारण करनेवाला (हे ३, ४४; ४५) । ली—भत्ती (पिंग) ।  
 भत्तोस न [भक्तोप] १ भुना हुआ अन्न (पंचा ५, २६; प्रभा १५) । २ सुखादिका, खाद्य-विशेष (पव ३८) ।  
 भत्थ पुंन्त्री [दे] भाया, तूणीर, तरकस; 'अह आरोविचवावो पिट्ठे दढवन्वभत्थयो अभयो' (धर्मवि १४६) ।  
 भत्था ली [भत्था] चमड़े की घोंकनी, भायी (उप ३२० टी; धर्मवि १३०) ।  
 भत्थिअ वि [भत्थित] तिरस्कृत (सम्मत्त १८६) ।  
 भत्थी ली [भत्थी] भायी, चमड़े की घोंकनी; 'भत्थि व्व अनिलपुत्ता विवसियमुदरं' (कुप्र २६६) ।  
 भद् सक [भद्] १ सुख करना । २ कल्याण करना (वित्ते ३४३६) । वक. भदंत; नीचे देखो ।  
 भदंत वि [भदन्त] १ कल्याण-कारक । २ सुख-कारक । ३ पूज्य, पूजनीय (वित्ते ३४३६; ३४७४) ।  
 भद न [दे] ग्रामलक, आदला-फल-विशेष (दे ६, १००) ।  
 भद न [भद्र] १ मंगल, कल्याण; 'भद भद्व' मिच्छादंसणसमूहमइअत्त अमय-सारत्त जिणवयणत्त भगवयो' (सम्मत्त

१६७; प्रातू १६)। २ सुवर्ण; सोना। ३ मुस्तक, मोया, नागरमोया (हे २, ८०)। ४ दो उपवास (संघोष ५८)। ५ देव-विमान विशेष (सम ३२)। ६ शरासन, मूठ (शाया १, १ टी—पत्र ४३)। ७ भद्रासन, आसन-विशेष (आवम)। ८ वि. साधु, सरल, नला, सज्जन। ९ उत्तम, श्रेष्ठ (भग; प्रातू १६; सुर ३, ४)। १० सुख-जनक, कल्याण-कारक (शाया १, १)। ११ पुं. हाथी की एक उत्तम जाति (ठा ४, २—पत्र २०८; महा)। १२ भारतवर्ष का तीसरा भावी बलदेव (सम १५४)। १३ श्रंगविद्या का जानकार द्वितीय छ्द्र पुरुष (विचार ४७३)। १४ त्रिभुज-विशेष—द्वितीया; सप्तमी और द्वादशी त्रिभुज (सुज १०, १५)। १५ छन्द-विशेष (पिग)। १६ स्वनाम-ख्यात एक जैन आचार्य (महानि ६; कप्प)। १७ व्यक्ति-नाचक नामक (निर १, ३; आव १; घम्म)। १८ भारतवर्ष का चौबीसवां भावी जिनदेव (पव ७)। १९ गुप्त पुं [गुप्त] स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन आचार्य (संदि; साध २३)। २० गुप्तिय न [गुप्तिक] एक जैन मुनि-कुल (कप्प)। २१ जस पुं [यशस] १ भगवान् पार्श्वनाथ का एक गणेश्वर (ठा ८—पत्र ४२६)। २ एक जैन मुनि (कप्प)। २२ जसिय न [यशस्क] एक जैन मुनि-कुल (कप्प)। २३ नंदि पुं [नन्दिन्] स्वनाम-ख्यात एक राज-कुमार (विपा २, २)। २४ वाहु पुं [वाहु] स्वनाम-प्रसिद्ध प्राचीन जैन आचार्य और ग्रन्थकार (कप्प, संदि)। २५ मुत्था वी [मुस्ता] वनस्पति-विशेष, मद्रमोवा (परण १)। २६ वया वी [पदा] नक्षत्र-विशेष (सुर १०, २२४)। २७ साल न [शाल] मेह पर्वत का एक वन (ठा २, ३; इक)। २८ सेण पुं [सेन] १ धरणेन्द्र के पदाति-सैन्य का अधिपति देव (ठा ५, १; इक)। २ एक श्रेष्ठी का नाम (आव ४)। २९ स न [श्व] नगर-विशेष (इक)। ३० सण न [सन] आसन-विशेष, सिंहासन (शाया १, १; परह १, ४; पाय; श्रौप)।

भददारु न [भद्रदारु] देवदारु, देवदारु की लकड़ी (उत्तनि ३)।

भद्वं } पुं [भाद्रपद] मास-विशेष, भादों  
भद्वय } का महीना (वजा ८२; सुर ३, १३८)।

भदसिरी वी [दे] श्रीखण्ड, चन्दन (दे ६, १०२)।

भद्रा वी [भद्रा] १ रावण की एक पत्नी (पञ्च ७४, ९)। २ प्रथम बलदेव की माता (सम १५२)। ३ तीसरे चक्रवर्ती की जननी (सम १५२)। ४ द्वितीय चक्रवर्ती की वी (सम १५२)। ५ मेह के पूर्व स्वक पर्वत पर रहनेवाली एक द्विकुमारी देवी (ठा ८)। ६ एक प्रतिमा, व्रत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ६४)। ७ राजा श्रेणिक की एक पत्नी (श्रंत २५)। ८ त्रिभुज-विशेष—द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी त्रिभुज (संघोष ५४)। ९ छन्द-विशेष (पिग)। १० कामदेव श्रावक की भार्या का नाम। ११ चुलनीपिता नामक उपासक की माता का नाम (उवा)। १२ एक सार्यवाहक वी का नाम (विपा १, ४)। १३ गोशालक की माता का नाम (भग १५)। १४ अहिंसा, दया (परह २, १)। १५ एक वापी (दीव)। १६ एक नगरी (आहु. १)। १७ अनेक द्वियों का नाम (शाया १, ८; १६, आवम)।

भद्राकरि वि [दे] प्रलम्ब, अति लम्बा (दे ६, १०२)।

भद्रिआ वी [भद्रिका, भद्रा] १ शोभना, सुन्दर (वी) (श्रीधमा १७)। २ नगरी-विशेष (कप्प)।

भद्रिजिया वी [भद्रिया, भद्रियिका] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प)।

भद्रिलपुर न [भद्रिलपुर] भारतवर्ष का एक प्राचीन नगर (श्रंत ४; कुप्र ८४; इक)।

भद्रदुत्तरवडिसग न [भद्रोत्तरावतंसक] एक देव-विमान (सम ३२)।

भद्रदुत्तरं } वी [भद्रोत्तरा] प्रतिमा-  
भद्रोत्तरं } विशेष, प्रतिज्ञा का एक भेद,  
भद्रोत्तरा } एक तरह का व्रत (श्रौप; श्रंत ३०; पव २७१)।

भद्र देखो भद्र (हे २, ८०, प्राक १७)।

भद्रंत } देवो भण = भण।  
भद्रमाण } देवो भण = भण।

भप्प देखो भस्स = भस्सन् (हे २, ५१; कुमा)।  
भम सक [भ्रम] भ्रमण करना, घूमना।  
भमइ (हे ४, १६१; प्राक ६६)। वड.  
भमंत, भममाण (गा २०२; ३८७; कप्प;  
श्रौप)। संक, भमिआ, भमिऊण (पड.  
गा ७४६)। क. भमिअव्व (सुपा ४३८)।  
भम पुं [भ्रम] १ भ्रमण (कुप्र ४)। २  
भ्रान्ति, मोह, मिय्या-ज्ञान (से ३, ४८;  
कुमा)।

भमग न [भ्रमक] लगातार एकतीस दिनों  
का उपवास (संघोष ५८)।

भमड देखो भम = भ्रम; 'भवम्मि भमडइ  
एगुच्चिय' (विवे १०८; हे ४, १६१)।

भमडिअ वि [भ्रान्त] १ घूमा हुआ, फिरा  
हुआ (स ४७३)। २ भ्रान्ति-युक्त (कुमा)।  
देखो भमिअ।

भमण न [भ्रमण] घूमना, चकराना। (दे  
४६; कप्प)।

भममुह पुं [दे] श्रावतं (दे, १०१)।

भमया वी [भ्रू] मोह, नेत्र के ऊपर की  
केश-पंक्ति (हे २, १६७; कुमा)।

भमर पुं [भ्रमर] १ मधुकर, भौरा (हे १,  
२४४; कुमा; जी १८; प्रातू ११३)। २ पुं.  
छन्द-विशेष (पिग)। ३ विट, रंडीवाल  
(कप्प)। ४ रुअ पुं [रुच] अनार्य देश-विशेष  
(पव २७४)। ५ वलि वी [वलि] १  
छन्द-विशेष (पिग)। २ भ्रमर-पंक्ति (राय)।

भमरट्टा वी [दे] १ भ्रमर की तरह श्लि-  
गोलकवाली। २ भ्रमर की तरह अस्थिर  
आचरणवाली। ३ शुष्क वण के दागवाली  
(कप्प)।

भमरिया वी [भ्रमरिका] जन्तु-विशेष, बरें  
(जी १८)। देखो भमलिया।

भमरी वी [भ्रमरी] वी-भ्रमर, भौरा (दे)।  
नीचे देखो।

भमलिया, वी [भ्रमरीका, ०री] १ पित्त  
भमली } के प्रकोप से होनेवाला रोग-विशेष,  
चक्रर; 'भमली पित्तुदयाओ भमंतमहिदंसण'  
(चैडय ४३५; पडि)। २ वाद्य-विशेष  
(राय)।

भमस पुं [दे] तृण-विशेष, ईल की तरह का  
एक प्रकार का घास (दे ६, १०१)।

भमाइअ वि [भ्रमित] धुमाया हुआ, फिराया हुआ (से ३, ६१)।

भमाड सक [भ्रमय्] धुमाना, फिराना।

भमाडेइ (हे ४, ३०), भमाडेसु (सुपा ११४)।

वक्र. भमाडेंट (पउम १०६, ११)।

भमाड देखो भम = भ्रम। भमाडइ (हे ४,

१६१; भवि)।

भमाड पुं [भ्रम] भ्रमण, धूमना, चक्र

(श्रोषमा २६ टी; २३ टी)।

भमाडण न [भ्रमण] धुमाना (उप पृ

२७८)।

भमाडिअ देखो भमडिअ (कुमा)।

भमाडिअ वि [भ्रमित] धुमाया हुआ,

फिराया हुआ (पउम १६, २५)।

भमाव देखो भमाड = भ्रमय्। भमावइ,

भमावेइ (वि ५५३; हे ४, ३०)।

भमास [दे] देखो भमस (दे ६, १०१;

पात्र)।

भमि स्त्री [भ्रमि] १ श्रावर्त, पानी का चक्रा-

कार भ्रमण (श्रुचु ६३)। २ वित्त-भ्रम

करने की शक्ति (विसे १६५३)। ३ रोग-

विशेष, चक्र, 'भमिपरिभ्रमियसरीरो' (हम्मीर

२८)।

भमिअ देखो भमडिअ (जी ४८; भवि)।

३ न. भ्रमण; 'भमिग्रमणिकंतदेहलीदेस'

(गा ५२५)।

भमिअ देखो भमाइअ (पात्र)।

भमिअव्व } देखो भम = भ्रम।

भमिआ }

भमिर वि [भ्रमित्] भ्रमण करनेवाला (हे

२, १४५; सुर १, ५५, ३, १८)।

भमुह न [भ्र] नीचे देखो; 'दीहाई भमुहाई'

(श्रावा २, १३, १७)।

भमुहा स्त्री [भ्र] भौं, श्राख के ऊपर की

रोम-राजी (पउम ३७, ५०; श्रौप; श्रावा;

पात्र)।

भम्म } देखो भम = भ्रम। भम्मइ (प्राकृ

भम्मड } ६६), भम्मसु (गा ४१५; ४४७)।

भम्मडइ (हे ४, १६१)। भम्मडेइ (कुमा)।

भम्मर (श्रप) देखो भमर (पिंग)।

भय देखो भद। वक्र. देखो भयंत = भदंत।

भय श्रक [भज्] १ सेवा करना। २

विकल्प से करना। ३ विभाग करना। ४

ग्रहण करना। भयइ, भयइ (सम्म

१२४; कुमा), भए, भएजा (वृह १), भयंति

(विसे १६६०); 'तम्हा भय जीव वेरग'

(श्रु ६१)। वक्र. भयंत, भयमाण (विसे

३४४६; सूत्र १, २, २, १७)। कवक्र.

'सव्वत्तुभदमाणसुहेहि' (कण)। संक्र.

भइत्ता (ठा ६)। क. भइअ, भइअव्व,

भएयव्व, भंज्ज, भयणिज्ज (विसे ६१८;

२०४६; उत ३६, २३, २४; २५; कम्म

५, ११; विसे ६१५; उप ६०४; विसे

३२०२; ७४८; १८१; जीवम १४५; पंच

५, ८; विसे ६१६; जीवसे १४७)।

भय न [भय] डर, नास, भीति (श्रावा; गाया

१, १; गा १०२; कुमा; प्रासु १६; १७३)।

°अर वि [°कर] भय-जनक (से ५, ४४;

११, ७५)। °जणणी स्त्री [°जन्नी] १

नास उत्पन्न करनेवाली (वृह १)। २ विद्या-

विशेष (पउम ७, १४१)। °वाह पुं [°वाह]

राक्षस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति

(पउम ५, २६३)।

भय देखो भव (उव; कुमा; सण; सुपा ४२०;

गउड)।

भय देखो भग (श्रौप; पिंग)।

भयंकर वि [भयंकर] १ भय-जनक, भोपण

(हे ४, ३३१; सण; भवि)। २ प्राणि-वध,

हिंसा (पएह १, १)।

भयंत देखो भय = भज्।

भयंत देखो भंत = भगवत् (सूत्र १, १६, ६)।

भयंत देखो भदंत (श्रोष ४८; उत २०, ११;

श्रौप)।

भयंत देखो भंत = भयान्त (विसे ३४४६;

३४५३; ३३५४)।

भयंत देखो भंत = भवान्त (विसे ३४५४;

श्रौप)।

भयंत वि [भयत्र] भय से रक्षा करनेवाला

(श्रौप; सूत्र १, १६, ६)।

भयंतु वि [भयत्रात्] भय से रक्षा करनेवाला

'धम्ममाइक्खणे भयंतारो' (सूत्र १, ४, १,

२५)।

भयंतु वि [भक्त्] सेवक, सेवा करनेवाला

(श्रौप)।

भयक } पुं [भूतक] १ नौकर, कर्मकर

भयग } (ठा ४, १; २)। २ वि, पोषित

(पएइ १, २; गाया १, २)।

भयण न [भजन] १ सेवा (राज)। २

विभाग (सम्म ११३)। ३ पुं. लोभ (सूत्र १,

६, ११)।

भयण देखो भवण (नाट—चैत ४०)।

भयणा स्त्री [भजना] १ सेवा (निचू १)।

२ विकल्प (भग; सम्म १२४; दं ३१; उव)।

भयप्पइ } देखो वहस्सइ (हे २, १३७;

भयप्पइ } पइ)।

भयवग्गाम पुं [दे] मोडेरक, गुजरात का एक

गाँव (दे ६, १०२)।

भयाणय वि [भयानक] भयंकर, भय-जनक

(स १२१)।

भयालि पुं [भयालि] भारतवर्ष के भावी

शठारहवें जिनदेव का पूर्व-भवीय नाम (सम

१५४)। देखो सयालि।

भयालु वि [भीरु] भीरु, डरपोक (दे ६,

१०७; नाट)।

भयावण (श्रप) देखो भयाणय (भवि)।

भयावह वि [भयावह] भय-जनक, भय-कारक

(सूत्र १, १३, २१)।

भर सक [भृ] १ भरना। २ धारण करना।

३ पोषण करना। भरइ (भवि; पिंग), भरसु

(कम्म ४, ७६)। वक्र. भरंत (भवि)।

कवक्र. भरंत, भरंत, भरिज्जंत (से १,

५८; ४, ८; १, ३७)। संक्र. भरेऊणं

(श्राक ६)। क. भरणिज्ज, भरणीअ,

भत्तव्व, भरेअव्व (प्राप्र; नाट राज; से

६, ३)।

भर सक [स्मृ] स्मरण करना, याद करना।

भरइ (हे ४, ७४; प्राप्र)। वक्र. भरंत

(गा ३८१; भवि)। संक्र. भरिअ, भरिऊणं

(कुमा)। प्रयो, वक्र. भरावंत (कुमा)।

भर पुंन [भर] १ सपूह, प्रकर, निकर;

'जइअव्वं तह एगागिणावि भीमारिडुभर'



(प्रवि १२; सुपा ७; पात्र) । २ भार, वोक्क (से ३, ५; प्रासू २६; सा ६) । ३ गुस्तर कार्य; 'नरत्तियत्तरणसमत्था' (विसे १६६ टी; ठा ४, ४ टी—पत्र २८३ । ४ प्रचुरता, अतिशय । ५ कर—राजदेय भाग की प्रचुरता; कर की गुस्ता; 'करेहि य भरेहि य' (विपा १, १) । ६ गुणता, सम्पूर्णता; 'इय चिताए निदं अलहंतो निसिभरम्मि नरनाहो' (कुप्र ६) । ७ मध्य भाग । ८ जमाकट; 'भरमुवणए कौलापमोए; (स ५३०) ।

भरअ देखो भरह (पङ्) ।

भरड पुं [भरड] व्रती-विशेष, एक प्रकार का वावा; 'सिवभवणाहिगारिया भरडएण' (सम्मत्त १४५) ।

भरण न [स्मरण] स्मृति (गा २२२; ३७७) ।

भरण न [भरण] १ भरना, पूरना (गडड) । २ पोषण (गा ५२७) । ३ शिल्प-विशेष, वक्र में बेल-बूटा आदि आकार की रचना; 'सीवणं तुन्नणं भरणां' (गच्छ ३, ७) ।

भरणी व्री [भरणी] नक्षत्र-विशेष (सम ८; इक) ।

भरघ (शौ) देखो भरह (प्राङ् ८५) ।

भरह पुं [भरत्त] १ भगवान् आदिनाय का ज्येष्ठ पुत्र और प्रथम चक्रवर्ती राजा (सम ६०; कुमा; सुर २, १३३) । २ राजा रामचन्द्र का छोटा भाई (पडन २५, १४) । ३ नाट्य-शास्त्र का कर्ता एक मुनि (सिदि ५३) । ४ वर्ष-विशेष; भारत वर्ष; 'इहेव जंबुद्वीपे दीपे सत्त वासा पन्नता, तं जहा— नरहे हेमवए हरिवासे महाविदेहे रम्मए एरणवए एखए' (सम १२; जं १; पडि) । ५ भारतवर्ष का प्रथम भावी चक्रवर्ती (सम १५४) । ६ श्वर । ७ तन्तुवाय । ८ नृप-विशेष, राजा दुष्यन्त का पुत्र । ९ भरत के वंशज राजा । १० नट (हे १, ११४; पङ्) । ११ देव-विशेष (जं ३) । १२ कूट-विशेष, पर्वत-विशेष का शिखर (जं ४; ठा २, ३; ६) । १३ खिन्न न [क्षेत्र] भारतवर्ष (सण) । १४ वास न [वर्ष] भारतवर्ष, आर्यावर्त्त (पएह १, ४) । १५ सत्य न [शास्त्र] भरतमुनि-प्रणीत नाट्यशास्त्र (सिदि ५६) । १६ हिंज पुं [धिप] १ संपूर्ण भारतवर्ष का राजा;

चक्रवर्ती । २ भरत चक्रवर्ती (सण) । १ हिंज पुं [धिप] वही अर्थ (सण) ।

भरहेसर पुं [भरतेश्वर] १ संपूर्ण भारतवर्ष का राजा, चक्रवर्ती । २ चक्रवर्ती भरत (कुमा २, १७; पडि) ।

भरिअ वि [सृत, भरित] भरा हुआ, पूर्ण, व्याप्त (विपा १, ३; औप; वनवि १४४; काप्र १७४; हेका २७२; प्रासू १०) ।

भरिअ वि [स्मृत] याद किया हुआ, 'भरिअं लुट्ठिं सुमरिअं' (पात्र; कुमा; भवि) ।

भरिउल्लट्ट वि [दे. भृत्तोल्लुठित] भर कर खाली किया हुआ (दे ७, ८१; पात्र) ।

भरिम वि [भरिम] भर कर बनाया हुआ (अणु) ।

भरिया (अप) देखो भारिया (कुमा) ।

भरिली व्री [भरिली] चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष (राज) ।

भरु पुं [भरु] १ एक अनार्य देश । २ एक अनार्य मनुष्य-जाति (इक) ।

भरुअच्छ पुं [भृगुअच्छ] गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर जो आजकल 'भड़ोच' के नाम से प्रसिद्ध है (काल; मुनि १०८६; पडि) ।

भरोच्छय न [दे] ताल का फल (दे ६, १०२) ।

भरु देखो भर = स्मृ । मलइ (हे ४, ७४) । प्रयो., वक्र. अलायंत (कुमा) ।

भरु सक [भरु] सम्हालना । भरिजानु (सुपा ५४६) । भवि. नलिस्तामि (काल) ।

क. भलेयव्व (ओप. ३८६ टी) । प्रयो., संक. भलाविऊण (सिदि ३१२; ५६६) ।

भरुतं वि [दे] स्तलित होता, गिरता (दे ६, १०१) ।

भरुविअ वि [भारुवि] सीगा हुआ, सम्हालने के लिये दिया हुआ (था १६) ।

भरु पुं [दे] कदाग्रह; हठ; 'असुलहमेच्छण जाहं मलि ते नवि दूर गणंति' (हे ४, ३५३; चंड) ।

भरु पुं [भरु] १ मालु, रोछ (पएह १, १) । २ पुंन. अन्न-विशेष, भाला, बरछी (गा ५०४; ५८५; ५६४) ।

भरु } वि [भरु] भला, उत्तम, श्रेष्ठ, भरुय } अच्छा (कुमा; हे ४, ३५३; भवि) । १. 'त्तण, 'प्पण न [त्व] मलमनसी, भलाई (कुमा) ।

भरुय [भरुय] देखो: भरु = भरु (उप पृ ३०; सण आचम) ।

भरुअय } पुं [भरुअत, 'क'] १ वृक्ष-भरुअतक } विशेष, भिलावा का पेड़ (पएण भरुअय } १; दे १, २३) । २ न. भिलावा का फल (दे १, २३; ५, २६; पात्र) ।

भरु व्री [भरु] देखो भरु (कुमा) ।

भरुम पुं [भरुम] भलाई, भद्रता (सुपा १२३; कुप्र १०८) ।

भरु व्री [भरु] भाला, बरछी, अन्न-विशेष (सुर २, २८; कुप्र २७४; सुपा ५२०) ।

भरु पुं [दे] मालु, रोछ (दे ६, ६६) ।

भरुकी व्री [दे] शिवा, श्रृगाली (दे ६, १०१; सण); 'भरुकी उट्टिया विकट्टी' (संया ६६) ।

भरुड पुं [दे] बाण का पुंख, शर का अग्र भाग; गुजराती में 'भालोडु'; 'कत्तायडिड-यवणुहपट्टदीसंतमल्लोड' (सुर २, ७) ।

भरु अक [भू] १ होना । २ सक. प्राप्त करना । भरु, भरुए (कप्प; महा), भरु (भग; ठा ३, १) । भूका. भविचु. (भग) । भवि. भविस्सद, भविस्सं (कप्प; भग; पि ५२१) । वक्र. भवंत (गडड ५८८), 'भूयभा-विना (१भ)यमाण नाविही' (कुप्र ४३७) । संक. भविअ, भवित्ता, भवित्ताणं (अभि ५७; कप्प; भग; पि ५८३), भरु (अप), (पिग) । क. भवियव्व (खाया १, १; सुर ४, २०७; उव; भग; सुपा १६४) । देखो भञ्ज ।

भरु पुं [भरु] १ संसार (ठा ३, १; उवा; भग; विपा २, १; कुमा; जो ४१) । २ संसार का कारण (सम्म १) । ३ जन्म, उत्पत्ति (ठा ४, ३) । ४ नरकादि योनि, जन्म-स्थान (आचा; ठा २, ३; ४, ३) । ५ महा-देव, शिव (पात्र) । ६ वि. होनेवाला, भावी (ठा १) । ७. उत्पन्न; 'कणयपुरं नामेणं तव्य भवो हं महानाग !' (सुपा ५८४) । ८ न. देव-विमान-विशेष (सम २) । ९ जिण

वि [°जिन] रागादि को जीतनेवाला; सासणं जिणारणं भवजिणारणं (सम्म १)। °ट्टिइ स्त्री [°स्थिति] १ देव आदि योनि में उत्पत्ति की काल-मर्यादा (ठा २, ३)। २ संसार में अवस्थान (पंचा १)। °स्थ वि [°स्थ] संसार में स्थित (ठा २, १)। °स्थकेवलि वि [°स्थकेवलिन्] जीवन्मुक्त (सम्म ८६)। °धारणिज्ज न [°धारणीय] जीवन-पर्यन्त संसार में धारण करने योग्य शरीर (भग; इक)। °पञ्चइय वि [°प्रत्ययिक] १ नरकादि-योनि-हेतुक। २ न. अवविज्ञान का एक भेद (ठा २, १; सम्म १४५)। °भूइ पुं [°भूति] संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि (गउड)। °सिद्धिय. °सिद्धीय वि [°सिद्धिक] उसी जन्म में या बाद के किसी जन्म में मुक्त होनेवाला, मुक्ति-गामी (सम २; पण १८; भग; वित्ते १२३०; जीवत्त ७५; श्रावक ७३; ठा १; वित्ते १२२६)। °भिणंदि, °भिनिंदि, °हिनिंदि वि [°भिनिन्दिन्] संसार को पसंद करनेवाला, संसार को अच्छा माननेवाला (राज; संबोध ८; ५३)। °ोक्खगाहि न [°ोपप्राहिन्] कर्म-विशेष (वर्मसं १२६१)।

भव देखो भव्य (कम्म ४, ६)।

भव पुं [भवन्] तुम, आप (कुमा; भवंत) हे २, १७४)।

भवंत देखो भव = भू।

भवँ (अप) भम = भ्रम्। भवंइ (सण)। वक्क. भवंत (भवि)। संक. भवंत्तु (सण)।

भवँण (अप) देखो भमण (भवि)।

भमण न [भवन्] १ उत्पत्ति, जन्म (वर्मसं १७२)। २ गृह, मकान, वसति (पाय; कुमा)। ३ अनुसकुमार आदि देवों का विमान (पण २)। ४ सत्ता (वित्ते ६६)। °वइ पुं [°पति] एक देव-जाति (भग)। °वासि पुं [°वासिन्] वही पूर्वोक्त अर्थ (ठा १०, श्रौप)। °वासिणी स्त्री [°वासिनी] देवी-विशेष (पण १७; महा ६८, १२)। °हिय पुं [°धिप] एक देव-जाति (सुपा ६२०)।

भवमाण देखो भव = भू।

भवर देखो भमर (चंड)।

भवानी स्त्री [भवानी] शिव-पत्नी, पार्वती (पाय; समु १५७)। °कंत पुं [°कान्त] महादेव (पिग)।

भवारिस वि [भवारिश] तुम्हारे जैसा, आपके तुल्य (हे १, १४२; चंड; सुपा २७३)।

भवि पुं [भविन्] भव्य जीव, मुक्ति-गामी प्राणी (भवि)।

भविअ देखो भव = भू।

भविअ वि [भव्य] १ सुन्दर (कुमा)। २ श्रेष्ठ, उत्तम (संबोध १)। ३ मुक्ति-योग्य, मुक्ति-गामी (पण १; उव)। ४ भावी होनेवाला (हे २, १०७; पड्)। देखो भव्य = भव्य।

भविअ वि [भविक] १ मुक्ति-योग्य, मुक्ति-गामी। २ संसारी, संसार में रहनेवाला (सुर ४, ८०)।

°भविअ वि [°भविक] भव-संबन्धी (सण)।

भवित्ती स्त्री [भवित्ती] होनेवाली (पिग)।

भवियव्व देखो भव = भू।

भवियव्वया स्त्री [भवितव्वया] नियति, अवश्य-भावी, होनी (महा)।

भविलि वि [भविलि] निष्ठुर (दश० अगस्त्य चू० पत्र० १६८, सूत्र० ३२६)।

भविस (अप) देखो भवीस। °त्त, °यत्त पुं [°दत्त] एक कथा-नायक (भवि)।

भविस्स पुं [भविस्स] १ भविष्य काल, आगामी समय (पउम ३५, ५६; पि ५६०)। २ वि. भविष्य काल में होनेवाला, भावी (साया १, १६—पत्र २१४; पउम ३५, ५६; सुर १, १३५; कप्पू)।

भवीस (अप) ऊपर देखो (भवि)।

भव्य वि [भव्य] १ सुन्दर, 'सर्वं भवं करिस्सामि' (सुपा ३३६)। २ उचित, योग्य (वित्ते २८; ४४)। ३ श्रेष्ठ, उत्तम (वज्जा १८)। ४ होता, वर्तमान; 'एयं भूयं वा भवं वा भविस्सं वा' (साया १, १६—पत्र २१४; कप्पू; वित्ते १३४२)। ५ भावी, होनेवाला (वित्ते ५८; पंच २, ८)। ६ मुक्ति-योग्य, मुक्ति-गामी (वित्ते १८२२; ३; ४; ५; दं १)। °सिद्धीय देखो भव-सिद्धीय;

'पज्जत्तापज्जत्ता सुहुमा किचहिया भव्व-सिद्धीया' (पंच २, ७८)।

भव्य पुं [दे] भागिनय, भानजा (दे ६, १००)।

भस सक [भप्] भूँकना, धान का बोलना। भसइ (हे ४, १८६; पड्—पत्र २२२), भसति (सिरि ६२२)।

भसग पुं [भसक] एक राज-कुमार, श्रीकृष्ण के बड़े भाई जरदकुमार का एक पौत्र (उव)। भसण देखो भिसण। भसणेमि (पि ५५६)। भसण न [भपण] १ कुत्ते का शब्द (श्रा २७)। २ पुं. खान, कुत्ता (पाय; सिरि ६२२)।

भसणअ (अप) वि [भपित्] भूँकनेवाला, 'सुणउ भसणउ' (हे ४, ४४३)।

भसम पुं [भस्मन्] १ ग्रह-विशेष, 'भस-मग्गहपीडियं इमं तित्थं' (सट्ठि ४२ टी)। २ रात्र, भभूत; 'भसपुव्वुत्तियात्तो' (महा; सम्मत ७६)। देखो भास = भस्मन्।

भसल देखो भमर (हे, १, २४४; २५४; कुमा; सुपा ४; पिग)।

भसुआ स्त्री [दे] शिवा, शृगाली, सियारिन (दे ६, १०१; पाय)।

भसुस देखो भसम (प्राक ३७)।

भसेह पुंन [दे] धान्य आदि का तीक्ष्ण अप्र नाग, 'सालिभसेल्लसरिसा से केसा' (उवा)। भसोल न [दे. भसोल] एक नाख-विधि (राज)।

भस्थ (मा) देखो भट्ट (पड्)।

भस्थालय (मा) देखो भट्टारय (पड्)।

भस्स देखो भंस = भंश्। भस्सइ (प्राक ७६)। वक्क. भस्संत (काल)।

भस्स पुं [भस्मन्] १ ग्रह-विशेष। २ राख (हे २, ५१)।

भरिसअ वि [भस्मित] जलाकर राख किया हुआ, भस्म किया हुआ (कुमा)।

भा अक [भा] चमकना, दीपना; प्रकाशना; 'भा भाजो वा दित्तीए' (वित्ते ३४४७)।

भाइ (कप्पू), भासि (गउड)। वक्क. देखो भंत = भात्।

भा स्त्री [भा] दीप्ति, प्रभा, कान्ति, तेज (कुमा)। °भंडल पुं [°मण्डल] राजा जनक

का पुत्र (पउम २६, ८७)। °वल्य न [°वल्य] जिन-देव का एक महाप्रातिहार्य, पीठ के पीछे रखा जाता दौति-मंडल (संवेच २; सिरि १७७)।

भा } अक [भी] डरना, भय करना। भाइ, भाअ } भाइइ, भाअमि (हे ४, ५३; पड्; महा; स्वप्न ८०), भादि (शौ) (प्राक् ६३), भावइ (सण)। भवि. भाइस्तदि, भाइस्तं (शौ) (पि ५३०)। वङ्. भायंत (कुमा)।

कृ. भाइयव्व (पएह २, २; स ५६२; सुपा ४१)।

भाअ देखो भा = भा। भाअदि (शौ) (प्राक् ६३)।

भाअ तक [भायय] डराना। भाअइ, भाअइ (प्राक् ६४), भाअसि (कपूर २४)। वङ्. भायमाग (सुपा २४८)।

भाअ देखो भाव = भावय्। कृ. भाएअव्व (नव २५)।

भाअ पुं [भाग] १ योग्य स्थान। २ एक देश (से १३, ६)। ३ अंश, विभाग, हिस्सा (पात्र; सुपा ४०७; पव—गाया ३०; उवा)।

४ भाग्य, नसीब (साव ८०)। °वेअ, °हेअ पुंन [°वेअ] १ भाग्य, नसीब (से ११, ८५; स्वप्न ५१; हम्मीर १४; अमि १६७)। २ कर, राज-देय। ३ दायाद, भागीदार; 'भाअहेअो, भाअहेअ' (प्राक् ८८; नाट—वैत ६०)। देखो भाग।

भाअ-पुं [दे] ज्येष्ठ भगिनो का पति (दे ६, १०२)।

भाअ देखो भाव (भवि)।

भाआव देखो भाअ = भावय्। भाआवेइ (प्राक् ६४)।

भाइ देखो भागि; 'सारिव्व वंभवहमरणभाइणो जिण ए हुंति तइ विहु' (वण ३२; उव ६८६ टी)।

भाइ } पुं [भ्राह्] भाई, कथु (उप ५१६; भाइअ } महा; आवम)। °वीया वी [°द्वि-तीया] पर्व-विशेष, भैषाङ्ग, कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि (ती १६)। °सुअ पुं [°सुत] भतीजा (सुपा ४७०)। देखो भाउ।

भाइअ वि [भाजित] १ विभक्त किया हुआ, बाँटा हुआ (पिड २०८)। २ खरिडल (पंच २, १०)।

भाइअ वि [भीत] १ डरा हुआ। २ न, डर, भय (हे ४, ५३)।

भाइणिज्ज } पुंश्री [भागिनेय] भगिनो-पुत्र, भाइणेअ } वहिन का लड़का, नानजा (धम्म भाइणेज्ज } १२ टी; नाट—रत्ना ८५; स २७०; लाया १, ८—पव १३२, पउम ६६, ३६; कुप ४४०; महा)। वी. °जी (पउम १७, ११२)।

भाइयव्व देखो भा = भी।

भाइर वि [भीरु] डरपोक (दे ६, १०४)।

भाइल्ल पुं [दे] हालिक, कपंक, कृपीवल, किनात (दे ६, १०४)।

भाइल्ल वि [भागिन्, °क] भागीदार, सामीदार, अंश-ग्राही (सूत्र २, २, ६३; पएह १, २; ठ ३, १—पत्र ११३; लाया १, १४)। देखो भागि।

भाइहंड न [दे. भ्राह्माण्ड] भाई, वहिन आदि स्वजन; गुजराती में 'भांवड' (कुप १५६)।

भाइरही वी [भागीरथी] गंगा नदी (गउड; हे ४, ३४७; नाट—विक्र २८)।

भाउ } पुं [भ्राह्] भाई, कथु (महा; भाउअ } सुर ३, ८८; पि ५५, हे १, १३१ उव)। °जाया, °जाइया वी [°जाया] मौजाई, भाई की वी (दे ६, १०३; सुपा २६४)।

भाउअ देखो भाअ = (दे) (दे ६, १०२ टी)।

भाउअ न [दे] आपाड़ मास में मनाया जाता गौरी-पार्वती का एक उत्सव (दे ६, १०३)।

भाउग देखो भाउ (उप १४६ टी; महा)।

भाउज्जा वी [दे] मौजाई, भाई की पत्नी (दे ६, १०३)।

भाउराअण पुं [भाउरायण] व्यक्ति-वाचक नाम (मुद्रा २२३)।

भाएअव्व देखो भाअ = भावय्।

भाग पुं [भाग] १ अंश, हिस्सा (कुमा; वी २७; दे १, १६७)। २ अचिन्त्य शक्ति, प्रभाव, महात्म्य; 'भागोचिता सत्तो स महा-भागो महप्पभावो ति' (विसे १०५८)। ३ पूजा, भजन (सूत्र १, ८, २२)। ४ भाग्य, नसीब; 'धत्ता कयपुत्ता हं महंभगोदयोनि मह अत्थि' (सिरि ८२३)। ५ प्रकार, भंगी

(राज)। ६ अयकाय (सुत्र १०, ३—पव १०४)। °वेअ, °वेज्ज °हेअ देलो भाअ-हेअ (पउम ६, ५७; २८; स १२; सुर १४, ६; पात्र)। देखो भाअ = भाग।

भागवय वि [भागवत्] १ भगवान् से संबन्ध रखनेवाला। २ भगवान् का भक्त (धर्मत्त ३१२)। ३ न. ग्रंथ-विशेष (सुदि)।

भागि वि [भागिन्] १ भजनेवाला, सेवन करनेवाला; 'भारस्त नागो' (उव), 'कि पुण मरणपि न मे संजायं मंदमग्गभागिस्त' (सुपा ५४७)। २ भागीदार, सामीदार, अंश-ग्राही (प्रामा)।

भागिणेज्ज } देखो भाइणेज्ज (महा; कुप भागिणेय } ३७१)।

भागीरही देखो भाइरही (पात्र)।

भाज अक [भाज्] चमकना। वङ्. भाजंत, भंत (विसे ३४४७)।

भाउ पुंन [दे] भाड़, वह बड़ा चूल्हा जहाँ अन्न भुना जाता है, नदी; 'जाया नाउममाणा मग्गा उत्तवाणुया अहिंय' (वर्मवि १०४; सण)।

भाउय न [भाटक] भाड़ा, किराया (नुर ६, १५७)।

भाउिय वि [भाटकित] भाड़े पर लिया हुआ, 'वोहिंयं भाउियं वियडं' (सुर १३, २५)।

भाउिया } वी [भाटिका, °टी] भाड़ा, भाडी } शुल्क, किराया; 'एक्काए देइ नाडि अत्ताहिं समं रमेइ रयणीए', 'विला-सिणीए दाऊए इच्छियं भाडि' (सुपा ३८२; ३८३; उवा)। °कम्म न [°कर्मन्] वैल, गाड़ी आदि भाड़े पर देने का काम—वत्था; 'भाडियकम्मं' (स ५०; आ २२; पडि)।

भाग देखो भण = भण। संङ्. भाणिऊण, भाणिऊणं (पिड ६१५; उव)। कृ. भाणियव्व (ठ ४, २; सम ८४; मग; उवा; कप्प; श्रौप)।

भाग देखो भायण (श्रोघ ६६५; हे १, २६७; कुमा)।

भाणिअ वि [भाणित] १ पढ़ाया हुआ, पाठित; 'नाणात्तव्वाइ भाणिआ' (रयण

६८) । २ कहलावा हुआ; 'मयणसिरिनामाए रत्तो भज्जाए भाणियो मंती' (सुपा ५८७) ।  
 भाणु पुं [भाणु] १ सूर्य, रवि (पउम ४६, ३६, पुष्प १६४; सिरि ३२) । २ किरण (प्रामा) । ३ भगवान् धर्मनाथ का पिता, एक राजा (सम १५१) । ४ छी. एक इन्द्राणी, शक्र की एक अग्र-महिषी (पउम १०२, १५६) । ५ कण्ठ पुं [कण्ठ] रावण का एक अनुज (पउम ७, ६७) । ६ मई छी [मती] रावण की एक पत्नी (पउम ७४, १०) । ७ मालिणी [मालिनी] विद्या-विशेष (पउम ७, १३६) । ८ मित्त न [मित्त] उज्जयिनी के राजा बलमित्र का छोटा भाई (काल; विचार ४६४) । ९ वेग पुं [वेग] एक विद्याघर का नाम (महा; सण) । १० सिरी छी [श्री] राजा बलमित्र की वहिन (काल) ।  
 भाम देखो भमाड = भ्रमय् । भामेइ (हे ४, ३०) । कवक. भामिज्जंत (गा ४५७) । क. भामेयञ्च (ती ७) ।  
 भामण न [भ्रामण] घुमाना, फिराना (सम्मत्त १७४) ।  
 भामर न [भ्रामर] १ मधु-विशेष, भ्रमरी का बनाया हुआ मधु (पत्र ४) । २ पुं. दोवक छन्द का एक भेद (पिन) ।  
 भामरी छी [भ्रामरी] १ वीणा-विशेष (गाया १, १७—पत्र २२६) । २ प्रदक्षिणा (कप्पु; भवि) ।  
 भामिअ वि [भ्रमित] १ घुमाया हुआ (से २, ३२) । २ भ्रान्त किया हुआ, भ्रान्त-चित्त किया हुआ; 'वत्तूरनामिओ इव' (मन २७; धर्मवि २३) ।  
 भामिणी छी [भ्रामिनी] भाग्यवाली (हे १, १६०; कुमा) ।  
 भामिणी छी [भ्रामिनी] १ कोप-शीला छी । २ छी, महिला (श्रा १२; सुर १, ७६; सुपा ४७५; सम्मत्त १६३) ।  
 भाय देखो भाउ (कुमा) ।  
 भायंत देखो भा = भी ।  
 भायण पुंन [भाजन] १ पात्र । २ आवार । ३ योग्य; 'भायणा, भायणाई' (हे १, ३३; २६७), 'ति चिय वंत्ता ते पुन्नभायणा, ताण जीवियं सहलं' (सुपा ५६७; कुमा) ।

भायण न [भाजन] आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र ७७६) ।  
 भायणंग पुं [भाजनाङ्ग] कल्पवृक्ष की एक जाति, पात्र देनेवाला कल्पवृक्ष (पउम १०२, १२०) ।  
 भायणिज्ज देखो भाङ्गिज्ज (धर्मवि १२; काल) ।  
 भायमाण देखो भाअ = भायय् ।  
 भायर देखो भाउ (कुमा) ।  
 भायल पुं [दे] जात्य अश्व, उत्तम जाति का घोड़ा (दे ६, १०४; पात्र) ।  
 भार पुं [भार] १ बोझा, युद्ध (कुमा) । २ भारवाली वस्तु, बोझवाली चीज (श्रा ४०) । ३ काम संपादन करने का अधिकार; 'भारक्खमेवि पुत्ते जो नियभारं ठवित्तु नियपुत्ते, न य साहेइ सकज्ज' (प्रासू २७) । ४ परिमाण-विशेष; 'लाउअवीअं इक्कं नासइ भारं गुडत्स जह सहसा' (प्रासू १५१) । ५ परिग्रह, धन-धान्य आदि का संग्रह (पएह १, ५) । ६ गंगसो अ [ग्रशस्] भार भार के परिमाण से; 'दसद्धवन्नमल्लं कुम्भगंगसो य भारगंगसो य' (गाया १, ८—पत्र १२५) । ७ वह वि [वह] बोझा देनेवाला (श्रा ४०) । ८ वह वि [वह] वही अर्थ (पउम ६७, २६) ।  
 भारई छी [भारती] भाया, वाणी, वाक्य, वचन (पात्र) । देखो भारही ।  
 भारदाय } न [भारद्वाज] १ गोत्र-विशेष,  
 भारदाय } जो गोतम गोत्र की एक शाखा है (कप्पु; सुज्ज १०, १६) । २ पुं. भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न; 'जे गोयमा ते गंगा ते भारद्वा (? दाय); ते अंगिरसा' (ठा ७—पत्र ३६०) । पक्षि-विशेष (श्रेयभा ८४) । ४ मुनि-विशेष (पि २३६; २६८; ३६३) ।  
 भारय देखो भार (सुपा १४, ३८५) ।  
 भारह न [भारत] १ भारतवर्ष, भरत-क्षेत्र (उवा); 'जहा निसंते तवणचिमाली पभासई केवलभारहं तु' (दस ६, १, १४) । २ पाण्डव कौरवों का युद्ध, महाभारत (पउम १०५, १६) । ३ ग्रंथ-विशेष, जिसमें पाण्डव-कौरव युद्ध का वर्णन है, व्यास-मुनि-प्रणीत महाभारत (कुमा; उर ३, ८) । ४ भरत

मुनि-प्रणीत नाट्य-शास्त्र (अणु) । ५ वि. भारतवर्ष-सम्बन्धी, भारतवर्ष का (ठा २, ३—पत्र ६६), 'तत्य खलु इमे दुवे सूरिया पन्नत्ता, तं जहा—भारहे चैव सूरिए, एखए चैव सूरिए' (सुज्ज १, ३) । 'खित्त न [क्षेत्र] भारतवर्षं (ठा २, ३ टी—पत्र ७१) ।  
 भारहिय वि [भारतीय] भारत-संबन्धी- 'जा भारहियकहा इव भीमज्जुणनउलसउरिए-सोहिल्ला' (सुपा २६०) ।  
 भारही छी [भारती] १ सरस्वती देवी (पि २०७) । २ देखो भारई (स ३१६) ।  
 भारिअ वि [भारिक] भारी, भारवाला, गुरु (दे ४, २; गाया १, ६ पत्र—११४) ।  
 भारिअ वि [भारित] १ भारवाला, भारी (उप पृ १३४) । २ जिस पर भार लादा गया हो वह, भार-युक्त किया गया (सुख २, २५) ।  
 भारिआ देखो भज्जा (हे २, १०७; उवा; गाया २) ।  
 भारिह वि [भारवत्] भारी, बोझवाला (धर्मवि १३७) ।  
 भारुंड पुं [भारुण्ड] दो मुँह और एक शरीर वाला पत्नी, पक्षि-विशेष (कप्पु; श्रौप; महा; दे ६, १०८) ।  
 भाल न [भाल] ललाट (पात्र; कुमा) ।  
 भलुंकी [दे] देखो भलुंकी (भत्त १६०) ।  
 भाल पुंन [दे] मदन-वेदना, काम-पीड़ा (संज्ञि ४७) ।  
 भाव सक [भावय्] १ वासित करना, गुणा-धान करना । २ चिन्तन करना । भावेइ (विदे ६८), भाविति (पिड १२६), 'भावेज्ज भावणं' (हि १६), भावेसु (महा) । कर्म. भाविज्जइ (प्रासू ३७) । क. भावेत्त, भावमाण, भावेमाण (सुर ८, १८५; सुपा २६५; उवा) । संक. भावेत्ता, भाविऊण (उवा; महा) । क. भावणिज्ज, भावियव्व, भावेयव्व (कप्पु; काल; सुर १४, ८४) ।  
 भाव अक [भास्] १ दिखाना, लगाना, मालूम होना । २ पसन्द होना, उचित मालूम होना;

'सो चैव देवलोगो देवसहस्त्वोवसोहिप्रो रम्भो ।  
सुह विरहियाइ इरिह भावइ नरओवमो मज्झ ।'  
(सुर ७, १६) ।

'तं चिय इमं विमारां रम्मं  
मणिकणगरयणविच्छुरियं ।

सुमए मुक्कं भावइ  
घडियालयसच्छहं नाह ।'  
(सुर ७, १७) ।

'एम्बहि राहप्रोहहं जं भावइ तं होउं  
(हे ४, ४२०) ।

भाव पुं [भाव] १ पदार्थः वस्तु; 'भावो वस्तु पयत्वो' (पाश्र्: वित्ते ७०; १६६२) । २ अग्निप्राय, आशय (आचा; पंचा १, १; प्रासू ४२) । ३ चित्त-विकार, मानस विकृति; 'हावभावपललियविकवेविल्लाससालिणीहि' (परह २, ४—पत्र १३२) । ४ जन्म, उत्पत्ति; पिंडो कज्जं पइसमयभावाउं' (वित्ते ७१) । ५ पर्याय, वर्म, वस्तु का परिणाम, द्रव्य की पूर्वापर अवस्था (परह १, ३; उक्त ३०, २३; वित्ते ६६; कम्म ४, १; ७०) । ६ वाच्य-युक्त पदार्थ विवक्षित क्रिया का अनुभव करनेवाली वस्तु, पारमाथिक पदार्थ (वित्ते ४६) । ७ परमार्थ, वास्तविक सत्य (वित्ते ४६) । ८ स्वभाव, स्वल्प (अणु; एदि) । ९ भवन, सत्ता (वित्ते ६०; गउड ६७८) । १० ज्ञान, उपयोग (आसू १; वित्ते ५०) । ११ चेष्टा (राया १, ८) । १२ क्रिया, वाच्य (अणु) । १३ विधि, कर्तव्योपदेश; 'भावाभावमणंता' (भग ४१—पत्र ६७६) । १४ मन का परिणाम (पंचा २, ३३; उव; कुमा ७, ५५) । १५ अन्तरंग बहुमान, प्रेम, राग (उव; कुमा ७, ८३; ८५) । १६ भावना, चिन्तन (गउड १२०४; संबोध २४) । १७ नाटक की भाषा में विविध पदार्थों का चिन्तक परिणत (अभि १८२) । १८ आत्मा. (भग १७, ३) । १९ अवस्था, दशा (कप्प) । 'केउ पुं [°केतु] ज्योतिष्क देव-विशेष, महाग्रह-विशेष (ठा २, ३) । 'त्यं पुं [°ार्थ] तात्पर्य, रहस्य (स ६) । 'न्नं न्युय वि [°ज्ञ] अग्निप्राय को जाननेवाला (आचा; महा) । 'पाण पुं [°प्राण] ज्ञान आदि आत्मा का अन्तरंग गुण (परण १) । 'संजय पुं

[°संयत] सचा, साधु (उप ७३२) । 'साहु पुं [°साधु] वही अर्थ (भग) । 'सव पुं [°स्तव] वह आत्म-परिणाम, जिससे कर्म का आगमन हो; 'भासवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेषो भावासवो' (द्रव्य २६) ।

भाव पुं [भाव] महान् वादो, समर्थ विद्वान् (वस १, १ टी) ।

भावअ वि [भावक] होनेवाला (प्राक ७०) । देखो भावग ।

भावइथा ली [दे] धार्मिक-गृहिणी (दे ६, १०४) ।

भावग वि [भावक] वासक पदार्थ, गुणावायक वस्तु (आसू ३) । देखो भावअ ।

भावड पुं [भावक] स्वनाम-ख्यात एक जैन गृहस्थ (ती २) ।

भावण पुं [भावन] १ स्वनाम-ख्यात एक वणिक् (पचम ५, ८२) । २ नीचे देखो (संबोध २४; वि ६) ।

भावणा ली [भावना] १ वासना, गुणाधान, संस्कार-करण (श्रीप) । २ अनुप्रेक्षा, चिन्तन । ३ पर्यालोचन (श्रीपमा ३; उव; प्रासू ३७) ।

भावि वि [भाविन्] भविष्य में होनेवाला (कुमा; सण) ।

भाविअ वि [दि] गृहीत, उपात्त (दे ६, १०३) ।

भाविअ न [भाविक] एक देव-विमान (सम ३३) ।

भाविअ वि [भावित] १ वासित (परह २, ५; उक्त १४, ५२; भग; प्रासू ३७) । २ भाव-युक्त; 'जिणपवयणत्तिव्वभावियमइत्त' (उव) । ३ शुद्ध, निर्दोष (वृह १) । 'प्प वि [°त्मन्] १ वासित अन्तःकरणवाला (श्रीप; राया १, १) । २ पुं. मुहूर्त-विशेष, अहोरात्र का तेरहवां या अठारहवां मुहूर्त (सुज १०, १३; सम ५१) । 'प्पा ली [°त्मा] भगवान्, वर्मनाथ की मुख्य शिष्या (सम १५२) ।

भाविदिअ न [भावेन्द्रिय] उपयोग, ज्ञान (भग) ।

भाविर् वि [भाविन्, भवित्] भविष्य में होनेवाला, अवश्यभावी; 'अम्हं भाविर्दोहर-

पवासदुहिया मिलाएइ' (मुपा ६), 'एत्वंत-रग्नि भाविरनियपिउणुविरहगिगदूमियमणेण' (मुपा ७५) ।

भाविह वि [भाववन्] भाव-युक्त, पण-वीसं भावणाई भाविहो पंचमहव्ययाईणं' (संबोध २४) ।

भाविस्स देखो भविस्स; 'भाविस्स्सुयपमवत-भावप्रालोयलोपणं विमलं' (मुपा ८६) ।

भावुक वि [दे] वयस्य, मित्र (संदि ४७) ।

भावुग } वि [भावुक] ग्रन्थ के संसर्ग की भावुय } जिस पर अक्षर ही सकती हो वह वस्तु (श्रीप ७७३; संबोध ५४) ।

भास सक [भाप्] कहना, बोलना । भासइ, नासंति (भग; उव) । भवि, भासिस्सामि (भग) । वक, भासंत, भासमाण (श्रीप; भग; विपा १, १) । कवक, भासिस्समाण (भग; सन ६०) । संक, भासित्ता (भग) । क, भासिअउव (भग; महा) ।

भास अक [भास्] १ शोभना । २ लगना, मालूम होना । ३ प्रकाशना, चमकना । भासइ (हे ४, २०३), 'भासए, नासंति, भासंति (मोह २६; भत ११०; सुर ७, १६२) । वक, भासंत (अचु ५४) ।

भास सक [भापय्] डराना । भासइ (वात्वा १४७) ।

भास पुं [भास] १ पक्षि-विशेष (परह १, १; दे २, ६२) । २ दीप्ति, प्रकाश; 'नाव-रिज्जइ कयावि । उक्कोतावरणम्मि जल-यच्छत्रकभासो व्व' (वित्ते ४६८; भवि) ।

भास पुं [भस्मन्] १ ग्रह-विशेष, ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३; विचार ५०७) । २ भस्म, राख (राया १, १; परह २, ५) । 'रासि पुं [°राशि] ग्रह-विशेष (ठा २, ३; कप्प) ।

भास न [भाष्य] व्याख्या-विशेष, पद्य-वृद्ध टीका (चैत्य १; उप ३५७ टी; विचार ३५२; सम्यक्त्वो ११) ।

भासं देखो भासा (कुमा) । 'णु वि [°ज्ञ] भाषा के गुण-दोष का जानकार (धर्मसं ६२५) । 'व वि [°वत्] वही सर्व (सूत्र १, १३, १३) ।

भासग वि [भापक] बोलनेवाला, वक्ता, प्रतिपादक (वित्ते ४१०; पंचा १८, ६; ठा २, २—पत्र ५६)।

भासण न [भासन] चमक, दीप्ति, प्रकाश; 'वस्मत्तिमात्तराण' (श्रौप)।

भासण न. [भापण] कवन, प्रतिपादन (महा)।

भासणया } व्री [भापंगा] ऊपर देखो (उप  
भासणा } ५१६; वित्ते १४७; उव)।

भासय देखो भासग (वित्ते ३७४; परएण १८)।

भासय वि [भासक] प्रकाशक (वित्ते ११०४)।

भासल वि [दे] दीप्त, प्रज्वलित (दे ६, १०३)।

भासा व्री [भापा] १ बोली, 'अद्वारस्तदेती-मासाविसारए' (श्रौप १०६; कुमा)। २ वाक्य, वाणी, गिरा, वचन (पात्र)। ३ जड्डु वि [जड] बोलने की शक्ति से रहित, मूक (आव ४)। ४ पञ्जत्ति व्री [पर्याप्ति] पुद्गलों को भापा के रूप में परिणत करने की शक्ति (भग ६, ४)। ५ विजय पुं [विचय] १ भापा का निर्णय। २ दृष्टिवाद, वारहर्षा जैन ग्रंथ-ग्रन्थ (ठा १०—पत्र ४६१)। ३ विजय पुं [विजय] दृष्टिवाद (ठा १०)। ४ समिअ वि [समित] वाणी का संयम-वाला (भग)। ५ समिइ व्री [समिति] वाणी का संयम (सम १०)। देखो भास।

भासा व्री [भास] प्रकाश, आलोक, दीप्ति (पात्र)।

भासि वि [भापिन्] नापक, वक्ता (धर्मवि ५२; भवि)।

भासिअ वि [भापित] १ उक्त, कथित, प्रतिपादित (भग; आचा; सण; भवि)। २ न. भापण, उक्ति (आवम)।

भासिअ वि [भापिन्, क] वक्ता, बोलने-वाला (भवि)।

भासिअ वि [दे] दत्त, अपित (दे ६, १०४)।

भासिअ वि [भासित] प्रकाशवाला, प्रकाश-युक्त (निदु १३)।

भासिर वि [भापित्] वक्ता (सुपा ५३८; सण)।

भासिर वि [भास्वर] दीप्त, देदीप्यमान (कुमा)।

भासिल्ल वि [भापावत्] भाषा-युक्त, वाणी-युक्त (उत्त २७, ११)।

भासीकय वि [भस्मीकृत] जलाकर राख किया हुआ (उप ६८६ टी)।

भासुड अक [दे] बाहर निकलना। भासुडइ (दे ६, १०३ टी)।

भासुडि व्री [दे] निःसरण, निर्गमन (दे ६, १०३)।

भासुर वि [भासुर] १ भास्वर, दीप्तिमान्, चमकता (सुर ६, १८४; सुपा ३३; २७२; कुप्र ६०; धर्मसं १३२६ टी)। २ घोर, भोषण, भयंकर; 'घोरा दाहणभासुरमइख-लल्लकभीमभीसणया' (पात्र)। ३ एक देव-विमान (सम १३)। ४ छन्द-विशेष (अजि ३०)।

भासुरिअ वि [भासुरित] देदीप्यमान किया हुआ, 'भासुरभूसणभासुरिअंगा' (अजि २३)।

भि देखो टिभ (आचा)।

भिअप्पइ } देखो वहस्सइ (पि २१२; पड्)।  
भिअप्फइ }  
भिअस्सइ }

भिइ देखो भइ = श्रुति (राज)।

भिउ पुं [भृगु] १ स्वनाम-ख्यात ऋषि-विशेष। २ पर्वत-सानु। ३ शुक-ग्रह। ४ महादेव, शिव। ५ जमदग्नि। ६ ऊँचा प्रदेश। ७ भृगु का वंशज। ८ रेखा, राजि (हे १, १२८; पड्)। ९ कच्छ न [कच्छ] नगर-विशेष, भड़ोच (राज)।

भिउड न [दे] अंग-विशेष, शरीर का अवयव-विशेष (?)। 'भुत्तूण तुयामिउडे खगं पिट्टम्मि उत्तरोयं च'; 'तो तस्सेव य खगं मिउडाओ गिन्हिअण चाणको' (धर्मवि ४१)।

भिउडि व्री [भृकुटि] १ भौ-भंग, भौ का विकार (विपा १, ३; ४)। २ पुं. भगवान् नमिनाय का शासन-देव (संति ८)।

भिउडिय वि [भृकुटित] जिसने भौ चड़ाई हो वह (णया १, ८)।

भिउडी देखो भिउडि (कुमा)।

भिउर वि [भिदुर] विनधर (आचा)।

भिउव्व पुं [भार्गव] श्रुत मुनि का वंशज-परिव्राजक-विशेष (श्रौप)।

भिग वि [दे] कृष्ण, काला (दे ६, १०४)। २ नील, हरा। ३ स्वीकृत (पड्)।

भिग पुं [भृङ्ग] १ भ्रमर, मधुकर (पउम ३३, १४८; पात्र)। २ पक्षि-विशेष (परएण १७—पत्र ५२६)। ३ कीट-विशेष। ४ विदलित अंगार, कोयला (णया १, १—पत्र २५; श्रौप)। कल्पवृक्ष की एक जाति (सम १६)। ६ छन्द-विशेष (भिग)। ७ जार, उपपति। ८ भांगरा का पेड़। ९ पात्र-विशेष; भारी (हे १, १२८)। १० गिभा व्री [निभा] एक पुष्करिणी (इक)। ११ पभा व्री [प्रभा] पुष्करिणी-विशेष (जं ४)।

भिगा व्री [भृङ्गा] एक पुष्करिणी, वापी-विशेष (इक)।

भिगार } पुं [भृङ्गार, क] १ भाजन-  
भिगारक } विशेष, भारी (परह १, ४-  
भिगारग } श्रौप)। २ पक्षि-विशेष; 'भिगा-  
रखंतभेरखरे' (णया १, १—पत्र ६५);  
'भिगारकदीणकंदियखेसु' (णया १, १—  
पत्र ६३; परह १, १; श्रौप)। ३ स्वर्ण-मय  
जल-पात्र (हे १, १२८; जं २)।

भिगारी व्री [दे. भृङ्गारी] १ कीट-विशेष, चिरो, भिल्लो (दे ६, १०५; पात्र; उत्त ३६, १४८)। २ मशक, डांस (दे ६; १०५)।

भिजा व्री [दे] अश्वत्थ, मालिश (सुअ १, ४, २, ८)।

भिटिया व्री [दे. वृन्ताकी] भंडा का गाछ (उप १०३१ टी)।

भिडिमाल } पुं [भिन्दिपाल] शक-विशेष  
भिडिवाल } (परह १, १; श्रौप; पउम ८,  
१२०; स ३८४; कुमा; हे २, ३८; प्राप्र)।

भिद सक- [भिद] १ भेदना, तोड़ना। २ विभाग करना। भिदइ, भिदए (महा; पड्)। भवि. भेच्छं, भिदिस्संति (हे ३, १७१; कुमा; पि ५३२)। कर्म. निज्जइ (आचा; पि ५४६)। वक्क. भिदंत, भिदमाण (ग १३६, पि ५०६)। कवक. भिज्जंत, भिज्जमाण (से ५, ६५; ठा २, ३, था ६; भग; उवा; णया १, ६; वित्ते ३११)। संक. भित्तूण,

भित्तूणं, भिदिअ भिदिऊण, भेत्तुआण,  
भेत्तण (रंभा; उत ६, २२; नाट—विक्र  
१७, पि ५८६; हे २, १४६; महा) । हेक.  
भिदित्तए, भित्तुं, भेत्तुं (पि ५७८; कण;  
पि ५७४) । क. भिदियव्व (पएह २, १),  
भेअव्व (से १०, २६) ।

भिदण न [भेदन] खएडन, विच्छेद (सुर १६,  
५६) ।

भिदणया स्त्री [भेदना] ऊपर देखो (सुर १,  
७२) ।

भिदिवाल (शौ) देखो भिडिवाल (प्राकृ  
८७) ।

भिभल देखो भिबभल (सुपा ८३; ३६५,  
पि २०६) ।

भिभलिय वि [विह वलित] विहल किया  
हुया, 'ता गज्ज मायंगो विभवणे य (? म)  
यपवाहमिभलियो' (धर्मसं ८०) ।

भिभसार पुं [भिम्भसार] देखो भंभसार  
(श्रौप) ।

भिभा स्त्री [भिम्भा] देखो भंभा (राज) ।

भिभिसार पुं [भिम्भिसार] देखो भंभसार  
(ठा ६—पत्र ४५८; पि २०६) ।

भिभी स्त्री [भिम्भी] वाद्य-विशेष, ढक्का (ठा  
६ टी—पत्र ४६१) ।

भिकख सक [ भिक्ष ] भोख मांगना, याचना  
करना । भिकखइ (संघोष ३१) । वक.  
भिकखमाण (उत १४, २६) ।

भिकख न [भैक्ष] १ भिक्षा, भोख । २ भिक्षा-  
समूह (श्रौषमा २१६; २१७); 'न कज्जं  
मम भिकखेण' (उत २५, ४०) । °जीविअ  
वि [°जीविक] भोख से निर्वाह करनेवाला,  
'भिक्षमंगा (प्राकृ ६; पि ८४) ।

भिकखं देखो भिकखा (पि ६७, कुप्र १८३;  
वर्मवि ३८) ।

भिकखण न [भिक्षण] भोख मांगना, याचना  
(धर्मसं १०००) ।

भिकखा स्त्री [भिक्षा] भोख, याचना (उत;  
सुपा २७७; पिग) । °यर वि [°चर]  
भिक्षुक (कण) । °यरिया स्त्री [°चर्या]  
भिक्षा के लिये पर्यटन (आचा; श्रौप; श्रौषमा

७४; उवा) । °लाभिय पुं [°लाभिक]  
भिक्षुक-विशेष (श्रौप) ।

भिकखाग } वि [भिक्षाक] भिक्षा मांगने-  
भिकखाय } वाला, भिक्षा से शरीर-निर्वाह  
करनेवाला (ठा ४, १—पत्र १५; आचा  
२, १, ११, १; उत ५, २८; कण) ।

भिकखु पुं स्त्री [भिक्षु] १ भोख से निर्वाह  
करनेवाला, साधु, मुनि, संन्यासी, ऋषि  
(प्राचा; सम २१; कुमा; सुपा ३४६; प्रासू  
१६६), 'भिक्षणसोवो य तसो भिक्षु ति  
निदरिसिओ समए' (धर्मसं १०००) । २  
वौद्ध संन्यासी; 'कम्मं चयं न गच्छइ चउच्चिहं  
भिक्षुसमयम्मि' (सुप्रनि ३१) । स्त्री. °णा  
(आचा २, ५, १, १; गच्छ ३, ३१; कुप्र  
१८८) । °पडिमा स्त्री [°प्रतिमा] साधु का  
श्रमिग्रह-विशेष, मुनि का व्रत-विशेष (भग;  
श्रौप) । °पडिआ स्त्री [°प्रतिआ] साधु का  
उद्देश, साधु के निमित्त, 'से भिववू वा भिक्षुणी  
वा से जं पुण वत्थं जाणेजा श्रंसंजए भिक्षु-  
पडियाए कीयं वा घोयं वा रत्तं वा' (आचा  
२, ५, १, ४) ।

भिकखुंड देखो भिच्छुंड (राज) ।

भिकखोंड देखो भिच्छुंड (श्रणु २४) ।

भिक्षारि (श्रप) वि [भिक्षाकारिन्] भिक्षारी,  
भोख मांगनेवाला (पिग) ।

भिगु देखो भिउ (पत्रम ४, ८६; श्रौष ३७४) ।

भिगुडि देखो भिउडि (पि १२४) ।

भिच्च पुं [भृत्य] १ दास, सेवक, नौकर (पाय;  
सुर २, ६२; सुपा ३०७) । २ वि. अच्छी  
तरह पोषण करनेवाला (विपा १, ७—पत्र  
७५) । ३ वि. भरणीय, पोषणीय (पएह १,  
२—पत्र ४०) । °भाव पुं [°भाव] नौकरी  
(सुर ४, १५६) ।

भिच्छं देखो भिकखं (पि ६७) ।

भिच्छा देखो भिकखा (गा १६२) ।

भिच्छुंड वि [दे. भिक्षोण्ड] १ भिक्षारी,  
भिक्षा से निर्वाह करनेवाला । २ पुं. वौद्ध  
साधु (गाया १, १५—पत्र १६३) ।

भिज्ज न [भेद्य] कर-विशेष, दरउ-विशेष  
(विपा १, १—पत्र ११) ।

भिज्जा देखो भिज्जा (ठा २, ३—पत्र ७१;  
सम ७१) ।

भिज्जिय देखो भिज्जिय (भग) ।

भिज्जमा स्त्री [अभिध्या] गृद्धि, लोभ (कण) ।

भिज्जिय वि [अभिधियत] लोभ का विषय,  
सुन्दर (भग ६, ३—पत्र २५३) ।

भिट्ट सक [दे] भेंटना । कर्म. 'बहुविहमिट्ट-  
एएहि भिट्टिअइ लद्धमाणेहि' (विरि ६०१) ।

भिट्टण न [दे] भेंटा, उपहार; युजराती में  
'भेटणु' (विरि ७५६; ६०१) ।

भिट्टा स्त्री [दे] ऊपर देखो (विरि ३६२) ।

भिड सक [दे] मिडना—१ मिलना, सटना,  
सट जाना । २ लड़ना, मूठभेड़ करना । मिडइ  
(भवि), मिडंति (विरि ४५०) । वक. भिडंत  
(उप ३२० टी; भवि) ।

भिडण न [दे] लड़ाई, मुठभेड़; 'सोंडीरमुहड-  
मिडणकलंपड' (सुपा ५६६) ।

भिडिय वि [दे] जिसने मुठभेड़ की हो वह,  
लड़ा हुआ (महा; भवि) ।

भिणासि पुं [दे] पक्षि-विशेष (पएह १,  
१ पत्र ८) ।

भिण्ण देखो भिन्न (गउड; नाट—चैत ३४) ।

°मरट्ट (श्रप) पुं [°महाराट्ट] छन्द का एक  
भेद (पिग) ।

भित्त देखो भिच्च (संति ५) ।

भित्तग } न [दे. भित्तक] १ खएड,  
भित्तय } टुकड़ा । २ आचा हिस्सा (आचा  
२, ७, २, ८; ६; ७) ।

भित्तर न [दे] १ द्वार, दरवाजा (दे ६,  
१०५) । २ भीतर, अंदर (पिग) ।

भित्ति स्त्री [भित्ति] भीत (गउड; कुमा) ।  
°संघ न [°सन्ध] भीत—दीवार का संवान,  
'जाएवि भित्तिसंघे खणियं खत्तं मुत्तिकव-  
सत्थेण' (महा) ।

भित्तिरुव वि [दे] टंक से छित्त (दे ६,  
१०५) ।

भित्तिल न [भित्तिल] एक देव-विमान (सम  
३८) ।

भित्तु वि [भेत्त] भेदन करनेवाला (पत्र २) ।

भित्तुं } देखो भिद ।  
भित्तूण }

भिद देखो भिद । भिदंति (आचा २, १, ६;  
६) । भवि. भिदिसंति (आचा २, १, ६,

६) भवि. निदिस्संति (आचा २, १, ६ ६; पि ५३२) ।

भिन्न वि [भिन्न] १ विदारित, खरिडत (गाया १, ८; उव; भग; पाप्र; महा) । २ प्रस्कृष्टित, स्फोटित (ठा ४, ४; पएह २, १) । ३ अन्य विसदृश, विलक्षण (ठा १०) । ४ परित्यक्त, उज्जित; 'जीवजडं भावयो भिन्नं' (बृह १; आच ४) । ५ ऊन, कम, न्यून (भग) । ६ कहा स्त्री [कथा] मैथुन-संबद्ध वात, रहस्यालाप (श्रौष ६६) । ७ पडवाइय वि [पिण्डपातिक] स्फोटित अन्न आदि लेने की प्रतिज्ञावाला (पएह २, १—पत्र १००) । ८ मास पुं [मास] पचीस दिन का महोना (जीत) । ९ मुहुत्त न [मुहुत्त] अन्तर्मुहुत्त, न्यून मुहुत्त (भग) ।

भिष्पु पुं [भीष्म] १ स्वनाम-ख्यात एक कुहवंशीय क्षत्रिय, गणेश, भीष्म पितामह । २ साहित्य-प्रसिद्ध रस-विशेष, भयानक रस । ३ वि. भय-जनक, भयंकर (हे २, ५४; प्राक ६५; कुमा) ।

भिष्मल वि [विह्वल] व्याकुल (हे २, ५८; ६०; प्राक २४; कुमा; वज्जा १५६) ।

भिष्मलग न [विह्वलन] व्याकुल बनाना (कुमा) ।

भिष्मस अक [भास् + यड् = वाभास्य] अत्यन्त दीपना । वक्र. भिष्मसमाण, भिष्मसमीण (गाया १, १—पत्र ३८; राय; पि ५५६) ।

भिष्मोर पुं [दे. हिमोर] हिम का मध्य भाग (?) (हे २, १७४) ।

भिष्मग देखो भयग (सण) ।

भिष्मंग पुं [दे.] ऋक्षण । देखो भिल्लिज (सूत्र कृतांग सूत्र २८५ चूर्णी) ।

भिल्लगा देखो भिल्लुगा (दस ६, ६२) ।

भिल्लिग सक [दे.] अभ्यंग करना, मालिश करना । भिल्लिगेज (आचा २, १३, २; ४; ५; निच १७) । वक्र. भिल्लिगांत (निच १७) । प्रयो. भिल्लिगावेज्ज (निच १७) । वक्र. भिल्लिगावंत (निच १७) ।

भिल्लिग पुं [दे.] धान्य-विशेष, मसूर भिल्लिग (कण; पंचा १०, ७३) ।

भिल्लिज पुं [दे.] अभ्यंग, आपाद-मस्तक-तेल-महंन (सूत्र १, ४, २, ८ टी) ।

भिल्लुंग पुं [दे. भिल्लुङ्ग] हिंसक पत्नी (राय १३४) ।

भिल्लुगा स्त्री [दे.] फटी हुई जमीन, भूमि की रेखा—फाट (आचा २, १, ५, ५) ।

भिल्ल पुं [भिल्ल] १ अनार्य देश-विशेष (पत्र २७४) । २ एक अनार्य जाति (सुर २, ४; ६, ३४; महा) ।

भिल्लमाल पुं [भिल्लमाल] स्वनाम-ख्यात एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश (विवे ११४) ।

भिल्लायई स्त्री [भिल्लायकी] भिलावा का पेड़ (उप १०३१ टी) ।

भिल्लिअ वि [भिल्लित] खरिडत, तोड़ा हुआ; 'पंचमइव्ययतुंगो पायारो भिल्लिओ जेण' (उव) ।

भिस देखो भास = भास् । भिसइ (हे ४, २०३; पड्) । वक्र. भिसंत, भिसमाण, भिसमीण (पउम ३, १२७; ७५, ३७; गाया १, १; श्रौष; कुमा; गाया १, १; पि ५६२) ।

भिस सक [प्लुप्] जलाना (प्राक ६५; घात्वा १४७) ।

भिस सक [भायय्] डराना । भिसइ, भिसेइ (प्राक ६४) ।

भिस न [भृश] १ अत्यन्त, अतिशय, अतिशयित; 'गर्लतभिसभिनदेहे य' (पिड ५८३, उप ३२० टी; सत्त ६१; भवि) ।

भिस देखो विस (प्राक १५; पएण १; सूत्र २, ३, १८) । २ कंदय पुं [कन्दक] एक प्रकार की खाने की मिष्ट वस्तु (पएण १७—पत्र ५३३) । ३ मुणाली स्त्री [मृणाली] कमलनी (पएण १) ।

भिसअ पुं [भिसज्] १ वैद्य, चिकित्सक (हे १, १८; कुमा) । २ भगवान् मल्लिनाथ का प्रथम गणधर (पत्र ८) ।

भिसंत देखो भिस = भास् ।

भिसंत न [दे] अनर्थ (दे ६, १०५) ।

भिसग देखो भिसअ (गाया १, १—पत्र १५४) ।

भिसण सक [दे] कंकना, डालना । भिसणेमि (गा ३१२) ।

भिसमाण देखो भिस = भास् ।

भिसरा स्त्री [दे] मत्स्य पकड़ने का जाल-विशेष (विपा १, ८—पत्र ८५) ।

भिसाव सक [भायय्] डराना । भिसावेइ (प्राक ६४) ।

भिसिआ स्त्री [दे. वृषिका] आसन-विशेष, भिसिगा स्त्री का आसन (दे ६, १०५; भग; कुप्र ३७२; गाया १, ८; उप ६४८ टी; श्रौष; सूत्र २, २, ४८) ।

भिसिण देखो भिसण भिसिणेमि (गा ३१२ अ) ।

भिसिणी स्त्री [विसिनी] कमलनी, पद्मिनी (हे १, २३८; कुमा; गा ३०८; काप्र ३१; महा; पात्र) ।

भिसी स्त्री [वृषी] देखो भिसिआ (पात्र) ।

भिसोल न [दे] नृत्य-विशेष (ठा ४, ४—पत्र २८५) ।

भिह् अक [भी] डरना । भिहइ (पड्) । भी कृ. भेअव्व (सुपा ५८४) ।

भी स्त्री [भी] १ भय, 'नो दंडभी डंडं समार-भेज्जासि' (आचा) । २ वि. डरनेवाला, भीरु (आचा) ।

भीअ वि [भीत] डरा हुआ (हे २, १६३; ४, ५३; पात्र; कुमा; उवा) । ३ भीय वि [भीत] अत्यन्त डरा हुआ (सुर ३, १६५) ।

भीइ स्त्री [भीति] डर, भय (सुर २, २३७; सिरि ८३६; प्रासू २४) ।

भीइअ वि [भीत] डरा हुआ (उप ६४०) ।

भीइर वि [भेतु] डरनेवाला, 'ता मरणभीइरं विसज्जेह मं, पव्वईस्सं' (वसु) ।

भीड [दे] देखो भिड । संक्र. भीडिवि (अप) (भवि) ।

भीडिअ [दे] देखो भिडिय (सुपा २६२) ।

भीतर [दे] देखो भित्तर (कुमा) ।

भीम वि [भीम] १ भयंकर, भीषण (पात्र; उव; पएह १, १; जी ४४; प्रासू १४४) । २ पुं. एक पाण्डव, भीमसेन (गा ४४३) । ३ राक्षस-निकाय का दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ४ भारतवर्ष का भावी सातवां प्रतिवासुदेव; 'अपराइए य भीमे महाभीमे य सुगोदे' (सम १५४) । ५ राक्षस-वंश का एक राजा, एक लंकापति



(पउम ५, २६३) । ६ सगर चक्रवर्ती का एक पुत्र (पउम ५, १७५) । ७ दमयंती का पिता (कुप्र ४८) । ८ एक कुल-पुत्र (कुप्र १२२) । ९ गुजरात का चालुक्य-वंशीय एक राजा—भीमदेव (कुप्र ४) । १० हस्तिनापुर नगर का एक कूटग्रह—राज-पुरुष (विपा १, २) । ११ एव पुं [°देव] गुजरात का एक चालुक्य राजा (कुप्र ५) । १२ कुमार पुं [°कुमार] एक राज-पुत्र (वम्म) । १३ पप्रभ पुं [°प्रभ] राक्षस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति (पउम ५, २५६) । १४ रूह पुं [°रुह] एक राजा, दमयंती का पिता (कुप्र ४८) । १५ सेण पुं [°सेन] एक पाण्डव, भीम (शाया १, १६) । २ एक कुलकर पुरुष (सम १५०) । ३ विलि पुं [°विलि] श्रंग-विद्या का जानकार पहला उर पुरुष (विचार ४७३) । ४ सुर न [°सुर] शाल-विशेष (अणु) ।

भीमासुरक न. [भीमासुरोक्त. °रीय] एक जैनितर प्राचीन शास्त्र (अणु ३६) ।  
भीरु } वि [भीरु, °क] डरपोक (वेद्वय  
भीरुअ } ६६; गउड; उत २७, १०; शनि  
८२) ।

भीस सक [भीपय] डराना । भीसइ (घात्वा १४७), भीसेइ (प्राक् ६४) ।

भीसण वि [भीपण] भयंकर, भय-जनक (जी ४६; सण; पात्र) ।

भीसय देखो भेसग (राज) ।

भीसाव देखो भीस । भीसावेइ (घात्वा १४७) ।

भीसिइ (शौ) वि [भीषित] भय-भीत किया हुआ, डराया हुआ (नाट—माल ५६) ।

भीह अक [भी] डरना । भीहइ (प्राक् ६४) ।

भुअ देखो भुंज । भुअइ, भुअए (पड्) ।

भुअ न [°दे] भूज-पत्र, वृक्ष-विशेष की छाल (हे ६, १०६) । १ रुक्ख पुं [°वृक्ष] वृक्ष-विशेष; भूज-पत्र का पड (परण १—पत्र ३४) । २ वत्त न [°पत्र] भोजपत्र (गउड ६४?) ।

भुअ-पुंजी [भुज] १ हाथ, कर (कुमा) । २ गरिष्ठ-प्रसिद्ध रेखा-विशेष (हे १, ४) ।  
श्री. °आ (हे १, ४; पिंग; गउड; से १,

३) । १ परिसप्प पुंजी [°परिसर्प] हाथ से चलनेवाला प्राणी; हाथ से चलनेवाली संप-जाति (जी २१; परण १; जीव २) । श्री. °पिणी (जीव २) । २ मूल न [°मूल] कला, कांठ (पात्र) । ३ भोग्य पुं [°भोग्य] रत्न की एक जाति (भग; श्रौप; उत ३६, ७६; तंडु २०) । ४ सप्प पुं [°सर्प] देवो परिसप्प (पव १५०) । ५ ल वि [°वत्] बलवान हाथवाला (सिरि ७६६) ।

भुअअ देखो भुअग (गउड; पिंग; से ७, २६; पात्र) ।

भुअइइ पुं [भुजगेन्द्र] ? श्रेष्ठ संप (गउड) । २ शेवनाग, वामुकि (अचु २७) । ३ वुरेस पुं [°पुरेश] श्रीकृष्ण (अचु २७) ।

भुअईसर } पुं [भुजगेश्वर] ऊपर देखो  
भुअएसर } (पएह १, ४—पव ७८; अचु ३६) । १ णअरणाह पुं [°नगरनाथ] श्री-कृष्ण (अचु ३६) ।

भुअंग पुं [भुजंग] १ सर्प; सांप (से ५, ६०; ना ६४०; गउड; सुर २, २४५; उव; महा; पात्र) । २ विट, रंडोवाज, वेर्या-गामी (कुमा; वज्जा ११६) । ३ जार, उपपति (कप्प) । ४ दूतकार, बुझाड़ी (उप पु २५२) । ५ चोर, तस्कर; देव सलोत्तमो चव मायापश्रोकुसलो व्राणियववेसधारी गहियो महानुग्रंगो (स ४३०) । ६ वदमार, वग; तावसवेसधारिया गहियनलियापश्रोग-खंगा विशेषकुमारसंतिया चत्तारि महाभूयंग ति (स ५२४) । ७ कित्ति श्री [°कृत्ति] कंडुक (गा ६४०) । ८ पआत (अप) देखो °पजाय (पिंग) । ९ पजाय न [°प्रयात] १ सर्प-जाति । २ छन्द-विशेष (भवि) । ३ राअ पुं [°राज] शेषनाग (त्रि ८२) । ४ वइ पुं [°पति] शेषनाग (गउड) । ५ पआअ (अप) देखो °पजाय (पिंग) ।

भुअंगम पुं [भुजंगम] १ सर्प, सांप (गउड १७८; पिंग) । २ स्वनाम-व्यात एक चोर (महा) ।

भुअंगिणी ? श्री [भुजङ्गी] ? विद्या-विशेष  
भुअंगी } (पउम ७, १४०) । २ नागिन (सुपा १=१; भत्त ११७) ।

भुअग पुं [भुजग] १ सर्प, सांप (सुर २,

२३६; महा; जी ३१) । २ एक देव-जाति, नाग-कुमार देव (पएह १, ४) । ३ वानर्यंतर देवों की एक जाति, महोरग (इक) । ४ रंडोवाज; भं कुट्टिण्ण भुयंगं तुमं पपारिअ अनियवमणेहि (कुप्र ३०६) । ५ वि. भोगी, विलासी (शाया १, १—टी—पत्र ४; श्रौप) । ६ परिरिगिअ न [परिरिङ्गत] छन्द-विशेष (प्रजि १६) । ७ वई श्री [°वती] एक इन्द्राणी, श्रतिकाय नामक महोलेन्द्र की एक श्रत्र-महिणी (इक; ठा ४, १; शाया २) । ८ वर पुं [°वर] द्वीप-विशेष (राज) ।

भुअग वि [भोजक] पूजक, सेवा-कारक (शाया १, १—टी—पत्र ४; श्रौप; वंत) ।

भुअगा श्री [भुजगा] एक इन्द्राणी, श्रतिकाय नामक इन्द्र की एक श्रत्र-महिणी (ठा ४, १, शाया २; इक) ।

भुअगीसर देखो भुअईसर (तंडु २०) ।

भुअण देखो भुवण (चंड; हात्स; १२२; पिंग; गउड) ।

भुअप्पइ  
भुअप्फइ } देखो नहत्सइ (पि २१२; पड्) ।  
भुअत्सइ

भुआ देखो भुअ = भुज ।

भुइ श्री [भृत्ति] ? भरण । २ पोपण । ३ वेतन । ४ मूल्य (हे १, १३१; पड्) ।

भुउडि देखो भिउडि (पि १२४) ।

भुंगल न [°दे] वाद्य-विशेष (सिरि ४१२) ।

भुंज सक [भुज्] १ भोजन करना । २ पालन करना । ३ भोग करना । ४ अनुभव करना । भुंजइ (हे ४, ११०; कस; उवा) । भुंजेजा (कप्प); 'निप्रनुअं भुंजनु सुहेण' (सिरि १०४४) । भूका. भुजित्या (पि ५१७) । भवि. भुंजिही, भोक्त्वसि, भोक्त्वामि, भोक्त्वते, भोक्च्छं (पि ५३२; कप्प; हे ३, १७१) । कर्म. भुज्जइ, भुंजिज्जइ (हे ४, २४६) । वक्र. भुंजंत, भुंजमाण, भुंजेमाण, भुंजाण (आचा; कुमा; विपा १, २; सम ३६; कप्प; पि ५०७; वमवि १२७) । कवक. भुज्जंत (सुपा ३७५) । संक्र. भुंजिअ, भुंजिआ, भुंजिऊण, भुंजिऊणं, भुंजित्ता, भुंजित्तु, भोक्त्वा, भोक्त्तुं, भोक्त्तूण (पि ५६१; सूअ १, ३, ४; २; सण; पि ५८५;

उत्त ६; ३; पि ५०७; हे २; १५; कुमा; प्राक् ३४)। हेक्. सुंजित्तए, भोत्तु, भोत्तए (पि ५७५; हे ४; २१२; आचा). सुंजण (अप) (कुमा)। क. सुज्ज, सुंजि-यव्य, सुंजेयव्य, भोत्तव्व; भुत्तव्व, भोज्ज, भोग्ग (तंहु ३३; धर्मवि ४१; उप १३६ टी; आ १६; सुपा ४६५; पिडभा ४५; सम्मत्त २१६; णाया १, १; पउम ६४, ६४; हे ४, २१२; सुपा ४६५; पउम ६५, २२; दे ७, २१; आघ २१४; उप पृ ७५; सुपा १६३; भवि)।

सुंजग वि [भोजक] भोजन करनेवाला (पिड १२३)।

सुंजण देखो सुंज = भुज्।

सुंजण न [भोजन] भोजन (पिड ५२१)।

सुंजणा ली. ऊपर देखो (पव १०१)।

सुंजय देखो सुंजग (सण)।

सुंजाव सक [भोज्य] १ भोजन कराना। २ पालन कराना। ३ भोग कराना। सुंजावेड (महा)। कवक. सुंजाविज्जंत (पउम २, ५)। संक. सुंजाविऊण, सुंजावित्ता (पि ५५२)। हेक्. सुंजावेडं (पंचा १०, ४५ टी)।

सुंजावय वि [भोजक] भोजन करनेवाला (स २५१)।

सुंजाविअ वि [भोजित] जिसको भोजन कराया गया हो वह (धर्मवि ३५; कुप्र १६५)।

सुंजिअ देखो सुंज = भुज्।

सुंजिअ देखो भुत्त (भवि)।

सुंजिर वि [भोक्त्] भोजन करनेवाला (सुपा ११)।

सुंउ पुंजी [दे] सुकर, वराह; गुजराती में 'सुंउ' (दे ६; १०६)। ली. 'डी', 'डिणी' (दे ६; १०६ टी; भवि)।

सुंडीर [दे] ऊपर देखो (दे ६; १०६)।

सुंभल न [दे] मद्य-पात्र (कम्म १, ५२)।

सुंहडि (अप) देखो भूमि (हे ४; ३६५)।

सुक अक [वुक्] भुंकरा; खान का बोलना। भुक्इ (गा ६६४ अ)।

सुकण पुं [दे] १ खान, कुत्ता। २ मद्य आदि का मान (दे ६; ११०)।

सुक्किअ न [वुक्कि] खान का शब्द (पात्र; पि २०६)।

सुक्किर वि [वुक्कि] भुंकरनेवाला (कुमा)।

सुक्खा ली [दे. वुमुक्खा] भूख, धुवा (दे ६; १०६; णाया १; १—पत्र ३५; महा; उप ३७६; आरा ६६; सम्मत्त १५७)।

लु वि [वत्] भूखा (धर्मवि ६६)।

सुक्खिअ वि [दे. वुमुक्खित] भूखा, धुवातुर (पात्र; कुप्र १२६; सुपा ५०१; उप ७२५ टी; स ५५३; वै २६)।

सुगुसुग अक [सुगसुगाय] 'सुग' 'सुग' आवाज करना। वक्. सुगुसुगत (पउम १०५, ५६)।

सुग्ग वि [सुग्ग] १ मोड़ा हुआ, वक्र, कुटिल (णाया १, ८—पत्र १३३; उवा)। वि. भग्ग, दूटा हुआ (णाया १, ५)। ३ दग्ग, जला हुआ; 'कि मज्झ जीविएणं एवंविहपरा-भवग्गिभुग्गाए' (उप ७६५ टी)। ४ भूना हुआ; 'चणउव्व भुग्गु' (कुप्र ४३२)।

सुज (अप) देखो सुंज। भुजइ (सण)।

सुजंग देखो सुअंग (भवि)।

सुजंग देखो सुअग = भुजग (धर्मवि १२४)।

सुज्ज देखो सुंज भुज्जइ (पड)।

सुज्ज पुं [भूर्ज] १ वृक्ष-विशेष। २ न. वृक्ष-विशेष की छाल (कप्पु; उप पृ १२७; सुपा २७०)। 'पत्त, वत्त न [पत्र] वही अर्थ (आवम; नाट. विक्र ३३)।

सुज्ज देखो सुंज।

सुज्ज वि [भूयस्] प्रभूत, अनल्प (श्रीप; पि ४१४)।

सुज्जिय वि [दे. सुग्ग] १ भूना हुआ धान्य। २ पुं. घाना, भूना हुआ यव (पएह २ ५—पत्र १४५)।

सुज्जो अक [भूयस्] फिर, पुनः (उवा; सुपा २७२)।

सुण्ण पुं [भ्रूण] १ लीं का गर्भ। २ वालक, शिशु (संखि १७)।

सुत्त वि [सुत्त] १ भक्षित (णाया १, १; उवा; प्रासू ३५)। २ जिसने भोजन किया हो वह; 'ते भायरो न भुत्ता' (सुख १, १५; कुप्र १२)। ३ सेवित। ४ अनुभूत; 'अम्म

ताय मए भोगा भुत्ता विसफलोवमा' (उत्त १६; ११; णाया १, १)। ५ न. भक्षण, भोजन; 'हासभुत्तासियाणि य' (उत्त १६, १२)। ६ विप-विशेष (ठा ६)। 'भोगि वि [भोगिन्] जिसने भोगों का सेवन किया हो वह (णाया १, १)।

सुत्तवत्त वि [सुत्तवत्त] जिसने भोजन किया हो वह (पि ३६७)।

सुत्तव्व देखो सुंज।

सुत्ति ली [सुत्ति] १ भोजन (अच्छु १७; अज्झ ५२)। २ भोग (सुपा १०५)। ३ आजीविका के लिए दिया जाता गांव, क्षेत्र आदि गिरास; 'उज्जेयी नाम पुरी दिन्ना तस्स य कुमारभुत्तीए' (उप २११ टी; कुप्र १६६)। 'वाल पुं [पाल] गिरासदार (धर्मवि १५४)।

भुत्तु वि [भोक्त्] भोगनेवाला (आ ६, संबोध ३५)।

भुत्तूण पुं [दे] भृत्य, नौकर (दे ६; १०६)।

भुत्थल्ल पुं [दे] विल्ली को फेंका जाता भोजन (कप्पु)।

भुम देखो भम = भ्रमं। भुमइ (हे ४, १६१; सण)। संक. भुमि वि (अप) (सण)।

भुमं } ली [भ्रू] भौं, आँख के ऊपर  
भुमगा } की रोम राजि (भग; उवा; हे २,  
भुमया } १६७; श्रीप; कुमा; पात्र; पव  
भुमा } ७३)।

भुमिअ देखो भमिअ = भ्रान्त; 'भुमिअवणू' (कुमा)।

भुम्मि (अप) देखो भूमि (पिंग)।

भुर्इआ ली [दे] शिवा, शृगाली, सिया-रिन (दे ६; १०१)।

भुर्इडिय } वि [दे] उद्धलित, धूलि-लिप्त;  
भुर्इडिअ } 'धूलिभुर्इडियपुत्तेहि परिगया चि-  
भुर्इडिअ } तए तत्तो' (सुपा २२६; दे ६,  
१०६), 'भुर्इधुर (? ह) कुंइयिगो' (कुप्र २६३; सूत्र क० चूर्णी. गा० २५२)।

भुल्ल अक [भ्रंश] १ च्युत होना। २ गिरना। ३ भूलना; 'भुल्लंति ते मणा मग्गा हा पमाओ दुरंतओ' (आत्म १६; हे ४, १७७)।

भुल वि [भ्रष्ट] भूला हुआ, 'कामंघयो कि पभमेति भुल्लो' (शु १५३; सुपा १२४; ५१६; कप्प)।

भुल्लविअ वि [भ्रंशित] भ्रष्ट किया हुआ (कुमा)।

भुल्लि वि [भ्रंशिन] भूलनेवाला, 'मयण-अभुल्लिरदुल्लियमभ्लिमुमहल्लतिकवभल्लीहि' (सुपा १२३)।

भुल्लुंकी [दे] देखो भल्लुंकी (पाय)।

भुव देखो हुव = भू। भुवइ (पि ४७५)। भुवदि (शौ) (घात्वा १४७)। भूका. भुवि (भग)।

भुव देखो भूअ = भुज (भवि)।

भुवइंद देखो भुअइंद (से ५, ७१)।

भुवण न [भुवन] १ जगत्, लोक (जी १; सुपा २१; कुमा २, १५)। २ जीव, प्राणी; 'भुवणाभयदाणललिअस्त' (कुमा)। ३ आकाश (प्रासू १००)। 'अखोहणी लो [होभनी] विद्या-विशेष (सुपा १७४)। 'गुरु पुं [गुरु] जगत् का गुरु (सुपा ७५)। 'नाह पुं [नाथ] जगत् का नाता (उप ५ ३५७)। 'पाल पुं [पाल] विक्रम की बारहवीं शताब्दी का गोपगिरि का एक राजा (मुगि १०८६)। 'बंधु पुं [बन्धु] १ जगत् का बन्धु। २ जिनदेव (उप २११ टी)। 'सोह पुं [शोभ] सातवें बलदेव के दीक्षक एक जैन मुनि (पउम २२, २०५)। 'लंकार पुं [लंकार] रावण का एक पट्ट-हन्ती (पउम ८२, १११)।

भुवणा लो [भुवना] विद्या-विशेष (पउम ७, १४०)।

भुशका (मा) देखो भुक्खा (प्राक १०१)।

भुस देखो वुस; 'वुसरसी इवा भुसरसी इवा' (भग १५)।

भुसुंदि लो [दे. भुशुण्डि] शत्रु-विशेष (सण)।

भू देखो भुव = भू। भूमि (पि ४७६)। संक भोत्ता, भोदुण (शौ) (हे ४, २७१)।

भू लो [भू] नौ, आँख के ऊपर की रोम-राजि; 'रत्ता भूसनार्' (सुपा ५७६; या १४; सुपा २२६; कुमा)।

भू लो [भू] १ पृथिवी, धरती (कुमा; कुप्र ११६; जीवत् २७६; तिरि १०४४)। २ पृथ्वीकाय, पार्थिव शरीरवाला जीव (कम्म ४, १०; १६; ३६)। 'आर पुं [वार] शूकर, सूअर (किरात ९)। 'कंत पुं [कान्त] राजा, नर-पति (या २८)। 'गोल पुं [गोल] गोलाकार भूमण्डल (कप्प)। 'चंद पुं [चन्द्र] पृथिवी का चन्द्र, भूमि-चन्द्र (कप्प)। 'चर वि [चर] भूमि पर चलने-फिरनेवाला मनुष्य आदि (उप ६८६ टी)। 'च्छत्त पुं [च्छत्र] वनस्पति-विशेष (दे १, ६४)। 'तणग देखो 'यणय (राज)। 'धण पुं [धन] राजा (या २८)। 'धर पुं [धर] १ राजा, नरपति (धर्मवि ३)। २ पर्वत, पहाड़ (धर्मवि ३; कुप्र २६४)। 'नाह पुं [नाथ] राजा (उप ६८६ टी; धर्मवि १०७)। 'मह पुं [मह] अहोरात्र का सत्ताईसवा मुहुर्त (सम ५१)। 'यणय पुं [नृणक] वनस्पति-विशेष (पण १ - पत्र ३४)। 'रुह पुं [रुह] वृक्ष, पेड़ (गउड; पुष्प ३६२; धर्मवि १३८)। 'व पुं [व] राजा (उप ७२८ टी; ती ३; श्रु ६६; काल)। 'वइ पुं [पति] राजा (सुपा ३६; पिग)। 'वाल पुं [पाल] १ राजा (गउड; सुपा ५६०)। २ व्यक्ति-वाचक नाम (भवि)। 'वित्त पुं [वित्त] राजा (या २८)। 'वीढ न [पीठ] भूतल, भूमि-तल (सुपा ५६३)। 'हर देखो 'धर (सण)।

भू पुं [भूयस्] कर्म-बन्ध का एक भूअ प्रकार (कम्म ५, २२; २३)। 'गार पुं [कार] वही अर्थ (कम्म ५, २२)। देखो भूओगार।

भूअ पुं [दे] यन्त्रवाह, यन्त्र-वाहक पुरुष (दे ६, १०७)।

भूअ वि [भूत] १ वृत्त, संजात, बना हुआ। २ अतीत, गुजरा हुआ (पइ; पिग)। ३ प्राप्त, लब्ध (राया १, १—पत्र ७४)। ४ समान, सदृश, तुल्य; 'तसभूएहि' (सूअ २, ७, ७; ८ टी)। ५ वास्तविक, यथार्थ, सत्य; 'भूअएहि चिअ गुणेहि' (गउड); 'भूअत्यसत्य-गंयो' (सम्मत्त १३६)। ६ विद्यमान; 'एवं

जह स इथो संतो नूमो तदअहानूमो' (विंत्त २२५१)। ७ उपमा, द्योपम्य। ८ तादर्थ्य, तदर्थ-भाव; 'श्रोवन्मे तादर्थ्ये व द्रुअ एगिरय भूयसदो ति' (यावक १२४)। ९ न. प्रकृत्यर्थ; 'उम्मत्तगनूए' (ठा ५, १)। १० पुं. एक देव-जाति (पणह १, ४; इक; राया १, १—पत्र ३६)। ११ विशाच (पाय; दे ४, २५)। १२ समुद्र-विशेष (देवेन्द्र २५५)। १३ द्वीप-विशेष (सुअ १६)। १४ पुं. जन्तु, प्राणी; 'पाणाई भूयाई जीवाई सत्ताई', 'भूयाणि वा जीवाणि वा' (प्राचा १, ६, ५, ४; १, ७, २, १; २, १, १, ११; पि ३६७); 'हरियाणि भूयाणि विलंबगारि' (सूअ १, ७, ८; उवर १५६)। १५ पृथिवी आदि पांच द्रव्य, महाभूत (स १६५), 'कि मन्ने पंच नूया' (विंत्त १६८६)। १६ वृक्ष, पेड़, वनस्पति (प्राचा १, १, ६, २)। 'इंद पुं [इन्द्र] भूत-देवों का इन्द्र (पि १६०)। 'ग्गह पुं [ग्रह] भूत का आवेश (जीव ३)। 'ग्गाम पुं [ग्राम] जीव-समूह (सम २६)। 'स्थ वि [स्थ] यथार्थ, वास्तविक (गउड; पउम २८, १४)। 'दिण्णा देखो 'दिन्ना (पडि)। 'दिन्न पुं [दिन्न] १ एक जैन आचार्य (एदि)। २ एक चाण्डाल-नायक (महा)। 'दिन्ना लो [दिन्ना] १ एक अन्त-कृत लो (अंत)। २ एक जैन साध्वी, महापि लूलभद्र की भगिनी (कप्प)। 'मंडलपवि-भक्ति न [मण्डलप्रविभक्ति] नाटक-विधि का एक भेद (राज)। 'लिवि लो [लिवि] लिपि-विशेष (सम ३५)। 'वडिंसा लो [वडिंसा] १ एक इन्द्राणी (जीव ३)। २ एक राजधानी (दोव)। 'वाइ, 'वाइय, 'वादिय पुं [वादिन्, 'वादिक] १ एक देव-जाति (इक; पणह १, ४; औप)। २ वि. भूत-ग्रह का उच्चार करनेवाला, मन्त्र-तन्त्रादि का जानकार (सुअ १, १४)। 'वाय पुं [वाद] १ यथार्थवाद। २ दृष्टिवाद, वारहवां जैन ग्रंथ-ग्रन्थ (ठा १०—पत्र ४६१)। 'विज्जा, 'वेज्जा लो [विद्या] आयुर्वेद का एक भेद, भूत-निग्रह-विद्या (विपा १; ७—पत्र ७५ टी)। 'पणंद पुं [पणन्द] १ नागकुमार देवों का दक्षिण दिशा का इन्द्र

(इकं) डा २, ३—पत्र ८४) । २ राजा कृणिक का पट्ट-हस्ती (भग १७, १) । 'णंदपह पुं [णन्दप्रभ] भूतानन्द इन्द्र का एक उपात-भवत (राज) । 'वाय देवो वाय (विसे ५५१; पव ६२ टी) ।

भूअण्ण पुं [दे] जोती हुई खल-भूमि में किया जाता यज्ञ (दे ६, १०७) ।

भूआ स्त्री [भूता] ? एक जैन साध्वी, महापि स्थूलभद्र की एक भगिनी (कप्प; पडि) । २ इन्द्राणी की एक राजधानी (जीव ३) ।

भूइ स्त्री [भूति] ? संपत्ति, धन, दौलत; 'ता परदेसं गंतुं विडवित्ता भूरिभूइपन्नार' (सुर १, २२३; सुपा १४८) । २ भस्म, राख; 'चारमसाणसमुन्नवभूइगुहकंसविचि-रंगीए' (गा ४०८; स ६; गडड) । ३ महा-देव के अंग की नत्मा; 'भूइभूतिव्यं हरत्तरीरं व' (सुपा १४८; ३६३) । ४ वृद्धि (सूत्र १, ६, ६) । ५ जीव-रक्षा (उत्त १२, ३३) । 'कम्म पुंन- [कम्मन्] शरीर आदि की रक्षा के लिए किया जाता भस्मलेपन-भूइवचनादि (पव ७३ टी; वृह १) । 'पण्ण, पन्न वि [प्रज्ञ] ? जीव-रक्षा की वृद्धिवाला (उत्त १२, ३३) । २ ज्ञान की वृद्धिवाला, अनन्त-ज्ञानी (सूत्र १, ६, ६) । देखो भूइ ।

भूइंद पुं [भूतेन्द्र] भूतों का इन्द्र (पि १६०) ।

भूइहु वि- [भूयिष्ट] अति प्रभूत, अत्यन्त (विसे २०३६; विरु १४१) ।

भूइहु स्त्री [भूतेष्टा] चतुर्दशी तिथि (प्राह) ।

भूइं देखो भूइ (पव २—११२) । 'कम्मिय वि [कम्मिक] भूति-कर्म करनेवाला (श्रीप) ।

भूओ अ [भूयस्] ? फिर से, पुनः (पउम ६८, २८; पंच २, १८) । २ वारंवार, फिर फिर; 'भूयो य अहिलसंतं' (उप ६५१) । 'गार पुं [कार] कर्म-वच्य का एक प्रकार, थोड़ी कर्म-प्रकृति के वच्य के बाद होनेवाला अधिक-प्रकृति-वच्य (पंच ५, १२) ।

भूओद पुं [भूतोद] समुद्र-विशेष (सुज १६) ।

भूओववाइय वि [भूतोपधातिन्, क] जीवों की हिंसा करनेवाला (सम ३७; श्रीप) ।

भूंहडी (अप) देखो भूमि (हे ४, ३६५-वि) ।

भूण देखो भुण्ण (संति १७; सम्मत ८६) ।

भूज देखो भुज्ज = भूर्ज (प्राह २६) ।

भूप देखो भू-व (वच १) ।

भूमआ देखो भुमया (प्राप्र) ।

भूमणया स्त्री [दे] स्वगत, आच्छादन (वच १) ।

भूमि स्त्री [भूमि] ? पृथिवी, धरती (पउम ६२, ४८; गडड) । २ क्षेत्र (कुमा) । ३ स्थल, जमीन, जगह, स्थान (पात्र; उवा; कुमा) । ४ काल, समय (कप्प) । ५ माल, मंजिला, तला; 'सत्तभूमियं पासायनवणं' (महा) । 'कंप पुं [कम्प] भू-कम्प (पउम ६६, ४८) । 'भिह, घर न [गृह] नीचे का घर, बुँदघरा, तहजाना (आ १६, महा) । 'गोयरिय वि [गोचरिक] स्थलचर, मनुष्य आदि (पउम ५६, ५२) । स्त्री. 'री (पउम ७०, १२) । 'च्छत्त न [च्छत्र] वनस्पति-विशेष (दे) । 'तल न [तल] घरा-गृह, भूतल (सुर २, १०५) । 'देव पुं [देव] ब्राह्मण (मोह १०७) । 'फोड पुं [स्फोट] वनस्पति-विशेष (जी ६) । 'फोडी स्त्री [स्फोटी] एक प्रकार का जहरोला जन्तु; 'पासवणं कुणमाणो दडो गुज्जम्मि भूमि-फोडीए' (सुपा ६२०) । 'भाग पुं [भाग] भूमि-प्रदेश (महा) । 'रुह पुं [रुह] भूमिस्फोट, वनस्पति-विशेष (आ २०; पव ४) । 'वइ पुं [पति] राजा (उप पु १८८) । 'वाल पुं [पाल] राजा (गडड) । 'सुअ पुं [सुत] मंगल-ग्रह (मूच्छ १४६) । 'हर देखो वर (महा) । देखो भूमी ।

भूमिआ स्त्री [भूमिका] ? तला, मंजिला, माल (महा) । २ नाटक में पात्र का वेशान्तर-ग्रहण (कप्प) ।

भूमिद पुं [भूमीन्द्र] राजा, नरपति (सम्मत २१७) ।

भूमिपिसाय पुं [दे. भूमिपिशाच] ताल वृक्ष, ताड़ का पेड़ (दे ६, १०७) ।

भूमो देखो भूमि (से १२, ८८; कप्प; पिड ४४८; पउम ६४, १०) । 'तुडयकूड न [तुडयकूट] एक-विद्यावर-नगर (इक) । 'सुयंग पुं [सुजङ्ग] राजा (मोह ८८) ।

भूमीस पुं [भूमीश] राजा (आ १२) ।

भूमीसर पुं [भूमीश्वर] राजा (सुपा ५०७) ।

भूमिहु देखो भूइहु (हास्य १२३) ।

भूरि वि [भूरि] ? प्रचुर, अत्यन्त, प्रभूत (गडड; कुमा; सुर १, २४८; २, ११४) ।

२ न. स्वर्ण; सोना । ३ धन, दौलत (साधं ८४) । 'स्सय पुं [श्रवस्] एक चन्द्र-वंशीय राजा, भूरियवा (नाट—वेणी ३७) ।

भूस सक [भूपय] ? सजावट करना । २ शोभाना, अलंकृत करना । भूसेमि (कुमा) । वक. भूसयंत (रंभा) । क. भूस (रंभा) ।

भूसण न [भूपण] ? अलंकार, गहना (पात्र; कुमा) । २ सजावट । ३ शोभा-करण (पएह २, ४; सण) ।

भूसा स्त्री [भूपा] ऊपर देखो (दे ३, ८; कुमा) ।

भूसिअ वि [भूपित] मरिडत, अलंकृत (गा ५२०; कुमा; काल) ।

भूहरी स्त्री [दे] तिलक-विशेष (सिरि १०२२) ।

भे अ [भोस्] ग्रामान्तरण-सूचक अव्यय (श्रीप) ।

भेअ पुंन [भेद] ? प्रकार, 'पुडविभेआइ इचाई' (जी ४, ५) । २ विशेष, पार्यक्य (ठा २, १; गडड; कप्प) । ३ एक राज-नीति, फूट; 'दाणमाणोवयारेहि सामभेआइएहि य' (प्रासू ६७), 'सामदंडभेयवण्णयाणोइ-सुण्णउत्तणयविहिनू' (याया १, १—पत्र ११) । ४ घाघ, आघात; 'वडुंति वम्मह-विइरणसरप्पसारा ताणं पआसइ ललुं चिम्म चित्तभेओ' (कप्प) । ५ मण्डल का अवान्तर-राल, बीच का भाग; 'पडिवत्तीओ उवए तह अत्यमरोमु य । भेयवा(? घा)ओ कएणकला मुहुत्ताए गतीति य ॥' (सुज १, १) ।

६ विच्छेद, पुष्यकरण, विदारण (श्रीप; अणु) । 'कर वि [कर] विच्छेद-कर्ता (श्रीप) । 'वाय पुं [वात] मंडल के बीच में गमन (सुज १, १) । 'समावन्न वि [समापन्न] भेद-प्राप्त (भा) ।

भेअग वि [भेदक] भेद-कारक (श्रौप; भग) ।  
 भेअण न [भेदण] १ विदारण, विच्छेदन;  
 'कु'तस्स सत्तपायालभेयणे नूण सामत्थं'  
 (चैद्य ७४६; प्राप् १४०) । २ भेद, फूट  
 करना (पव १०६) । ३ विनाश; 'कुलसयण-  
 मित्तभेयणकारिकायो' (तंदु ४६) ।  
 भेअय देखो भेअग (भग) ।  
 भेअव्व देखो भिंद ।  
 भेअव्व देखो भी = भी ।  
 भेइह वि [भेदवन्] भेद वाला, 'सम्मत्त-  
 नाणचग्गा पत्तेयं अट्टअट्टभेइह्ला' (संवोव  
 २२; पंच ४, १) ।  
 भेअर देखो भिअर (आचा; ठा २, ३) ।  
 भेई वी [भिण्डा, ँण्डी] गुल्म-विशेष, एक  
 जाति की वनस्पति (पएह १—पत्र ३२) ।  
 भेभल देखो भिभल (सि ६, ३७) ।  
 भेभलिद् (शौ) देखो भिभलिअ (पि २०६) ।  
 भेक देखो भेग (दे १, १४७) ।  
 भेक्खस पुं [दे] राक्षस-रिपु, राक्षस का  
 प्रतिपक्षी (कुप्र ११२) ।  
 भेग पुं [भेक] मॅडक (दे ४, ६, धर्मसं ५५७) ।  
 भेच्छं देखो भिंद ।  
 भेज्ज देखो भिज्ज (विपा १, १ टी—पत्र  
 १२) ।  
 भेज्ज | वि [दे] भील, डरपोक (दे ६,  
 भेज्जलय | १०७; पड्) ।  
 भेज्जह  
 भेड वि [दे. भेर] भील, कातर (हे १,  
 २५१; दे ६, १०७; कुमा २, ६२) ।  
 भेडक देखो भेलय (मृच्छ १८०) ।  
 भेत्तु वि [भेत्त] भेदन-कर्ता (आचा) ।  
 भेत्तुआण } देखो भिंद ।  
 भेत्तु }  
 भेत्तूण }  
 भेद देखो भिंद । संक. भेदिअ (मृच्छ १४३) ।  
 भेद देखो भेअ (भग) ।  
 भेदअ देखो भेअय (वेणी ११२) ।  
 भेदणया देखो भेअण (उप-पु ३२१) ।  
 भेदिअ देखो भेद = भिंद ।  
 भेदिअ वि [भेदित] भिन्न किया हुआ  
 (भग) ।  
 भेरंड पुं [भेरण्ड] देश-विशेष (राज) ।

भेरव न [भैरव] १ भय, डर (कप्प) । २  
 पुं. राक्षस आदि भयंकर प्राणी (सूय १, २,  
 २, १४; १६) । ३ देखो भइरव (पउम  
 ६, १८३; चैद्य १००; श्रौप; महा; पि ६१) ।  
 ०णंद् पुं [०णन्द] एक योगी का नाम  
 (कप्प) ।  
 भेरि } वी [भेरि; ०री] वाद्य-विशेष, ढका  
 भेरी } (कप्प; पिग; श्रौप; सण) ।  
 भेरंड पुं [भेरण्ड] भारंड पक्षी, दो मुँह  
 और एक शरीरवाला पक्षि-विशेष (दे ६,  
 ५०) ।  
 भेरंड पुं [दे] १ चित्रक, चीता, श्वापद  
 पशु-विशेष (दे ६, १०८) । २ निविप सपं;  
 'सविसो हम्मइ सणो भेरंडो तत्थ मुच्चइ'  
 (प्राप् १६) ।  
 भेरुताल पुं [भेरुताल] वृक्ष-विशेष (राज) ।  
 भेल सक [भेलय्] मिश्रण करना, मिलाना ।  
 गुजराती में 'भेळवु' । संक. भेलइत्ता (पि  
 २०६) ।  
 भेलय पुं [दे. भेलक] वेड़ा, उडुन, नौका  
 (दे ६, ११०) ।  
 भेलविय वि [भेलित] मिथित, युक्त; 'सो  
 भयभेलवियदिट्ठी जलं ति मत्तमाणो' (वसु) ।  
 भेली वी [दे] १ आचा, हुकुम । २ वेड़ा,  
 नौका । ३ चेटा, दासी (दे ६, ११०) ।  
 भेस सक [भेपय्] डराना । भेसइ, भेसेइ  
 (धात्वा १४८; प्राक ६४) । कर्म. भेसिज्जए  
 (धर्मवि ३) । वक. भेसंत, भेसयंत (पउम  
 ५३, ८६; आ १२) । कवक. भेसिज्जंत  
 (पउम ४६, ५४) । संक. भेसेज्जण (काल;  
 पि ५८६) । हेक. भेसेउं (कुप्र १११) ।  
 भेसग पुं [भीष्मक] रत्निमयी का पिता,  
 कौण्डिन्य-नगर का एक राजा (आया १,  
 १६; उप ६४८-टी) ।  
 भेसज न [भैपज] श्रौपव (पउम १४, ५४;  
 ५६) ।  
 भेसज्ज न [भैपज्ज] श्रौपव, दवाई (उवा;  
 श्रौप; रंभा) ।  
 भेसण देखो भीसण (भग ७, ६—पत्र  
 ३०७) ।  
 भेसण न [भीषण] डराना, विनासन (श्रौप  
 २०१) ।

भेसणा वी [भीषणा] ऊपर देखो (पएह २,  
 १—पत्र १००) ।  
 भेसयंत देखो भेस ।  
 भेसाव देखो भेस । भेसावइ (धात्वा १४८) ।  
 भेसाविय } वि [भीषित] डराया हुआ  
 भेसिअ } (पउम ४६, ५३; से ७, ४५;  
 नुर २, ११०; श्रावक ६३ टी) ।  
 भो देखो भुंज । संक. भोजण, भोत्तण  
 (धात्वा १४८; संलि ३७) । हेक. भोउ  
 (धात्वा १४८; संलि ३७) । क. भोत्तव्व  
 (संलि ३७), भोअव्व (धात्वा १४८) ।  
 भो अ [भोस्] धामन्वण-द्योतक अव्यय  
 (प्राक ७६; उवा; श्रौप; जी ५०) ।  
 भो स [भवत्] तुम, आप । वी. भोई (उत्त  
 १४, ३३; त ११६) ।  
 भोअ सक [भोजय्] खिलाना, भोजन  
 कराना । भोयइ, भोयए (सम्मत्त १२५; सूय  
 २, ६, २६) । संक. भोइत्ता (उत्त ६, ३८) ।  
 भोअ पुं [दे. भोग] भाड़ा, किराया (दे ६,  
 १०८) ।  
 भोअ देखो भोग (स ६५८; पात्र, सुपा  
 ४०४; रंभा ३२) ।  
 भोअ पुं [भोज] उज्जयिनी नगरी का एक  
 सुप्रसिद्ध राजा (रंभा) । ०राय पुं [०राज]  
 वही अर्थ (सम्मत्त ७५) ।  
 भोअ वि [भौत] मरम से उपलित (धर्मसं  
 ४१) ।  
 भोअग वि [भोजक] १ खानेवाला (पिड  
 ११७) । २ पालन-कर्ता (वह १) ।  
 भोअडा वी [दे] कच्छ, लंगोट; 'लौवत्थं  
 भोवडादीयं' (निह १) ।  
 भोअण न [भोजन] १ भक्षण, खाना । २  
 भात आदि खाद्य वस्तु (आचा; ठा ६; उवा;  
 प्राप् १८०; स्वण ६२; सण) । ३ लगातार  
 सतरह दिनों का उपवास (संवोव ५८) । ४  
 उपभोग; 'विह्वल्लवाई कामभोगाई समारंभति  
 भोयणाए' (सूय २, १, १७) । ०रुक्ख पुं  
 [०वृक्ष] भोजन देनेवाली एक कल्पवृक्ष-जाति  
 (पउम १०२, ११६) ।  
 भोअल (अप) पुं [दे. भोल] छन्द-विशेष  
 (पिग) ।

भोइ वि [भोजिन्] भोजन करनेवाला (आचा; पिड १२०; उव) ।

भोइ देखो भोगि (सुपा ४०४; संवोध ५०; पिण; रंभा) ।

भोइ } पुं [दे. भोगिन्, क] १ ग्रामा-  
भोइअ } व्यस, ग्राम का मुखिया, गांव का  
नायक (वव ७; दे ६, १०८; उत १५, ६,  
वृह १; श्रोषभा ४३; पिड ४३६; सुख १,  
३, पव २६८; भवि; सुपा १६५; गा ५५६) ।  
२ महेश (पड्) ।

भोइअ वि [भोगिक] १ भोग-युक्त, भोगासक्त,  
विलासी (उत १५, ६; गा ५५६) । २  
भोग-वंश में उत्पन्न (उत १५, ६) ।

भोइअ वि [भोजित] जिसको भोजन कराया  
गया हो वह (सुर १, २१४) ।

भोइणी स्त्री [दे. भोगिनी] ग्रामाव्यस की  
पत्नी (पिड ४३६; गा ६०३; ७३७; ७७६;  
निचू १०) ।

भोइया } स्त्री [भोग्या] १ भार्या, पत्नी,  
भोई } स्त्री (वृह १; पिड ३६८) । २  
वेश्या (वव ७) ।

भोई देखो भो = भवत् ।

भोइ देखो भुंड (गा ४०२) ।

भोक्ख देखो भुंज ।

भोग पुंन [भोग] १ स्वयं, रस आदि विषय,  
उपभोग्य पदार्थ; 'स्त्री भंते भोगा अस्वी'  
(भग ७, ७—पत्र ३१०), 'भोगभोगाई  
भुंजमाणे विहरह' (विपा १, २) । २ विषय-  
सेवा (भग ६, ३३; श्रौप), 'भुंजता बहुविहाई  
भोगाई' (संथा २७) । ३ मदन-व्यापार, काम-  
क्षेत्र; 'कामभोगे यं खलु मए अण्णाहट्टु' (सूत्र  
२, १, १२) । ४ विषयेच्छा, विषयामिलाप  
(आचा) । ५ विषय-सुख; 'चइत्तु भोगाई  
असासयाई' (उत १३, २०); 'तुच्छा य  
कामभोगा' (प्रासू ६६); 'अहिभोगे विय भोगे  
निहण्णं धणं मल्लं कमलपि मन्ता' (सुपा  
८३) । ६ भोजन, आहार (पंचा ५, ४;  
उप २०७) । ७ गुरु-स्थानीय जाति-विशेष,  
एक सत्रिय-कुल (कप; सम १५१; ठा ३,  
१—पत्र ११३; ११४) । ८ अमात्य आदि  
गुरु-स्थानीय लोक, गुरु-वंश में उत्पन्न (श्रौप) ।

६ शरीर, देह (तंडु २०) । १० सर्प की  
फणा (सुपा) । ११ सर्प का शरीर (दे ६,  
८६) । १२ करा देखो भोगंकरा (इक) । कुल  
न [कुल] पूज्य-स्थानीय कुल-विशेष (पि  
३६७) । पुर न [पुर] नगर-विशेष  
(आवम) । पुरिस पुं [पुरुप] भोग-तत्पर  
पुरुष (ठा ३, १—पत्र ११३; ११४) ।

भोगि वि [भोगिन्] भोग-शाली  
(पउम ५६, ८८) । भूम वि [भूम]  
भोग-भूमि में उत्पन्न (पउम १०२, १६६) ।  
भूमि स्त्री [भूमि] देवकुह आदि अकमं-  
भूमि (इक) । भाग पुंन [भोग] भोगाहं  
शब्दादि-विषय, मनोज्ञ शब्दादि (भग ७, ७;  
विपा १, ६) । मालिणी स्त्री [मालिनी]  
अवलोक में रहनेवाली एक दिक्कुमारी  
देवी (ठा ८; इक) । राय पुं [राज]  
भोग-कुल का राजा (दस २, ८) । वइया  
स्त्री [वतिक्रा] लिपि-विशेष (परण १—  
पत्र ६२); 'भोगवयता (इया)' (सम ३५) ।  
वई स्त्री [वती] १ अवलोक में रहनेवाली  
एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८; इक) । २ पल  
की दूसरी, सातवीं और बारहवीं रात्रि-तियि  
(सुज १०, १५) । विस पुं [विप] सर्प  
की एक जाति (परण १—पत्र ५०) ।

भोगंकरा स्त्री [भोगंकरा] अघोलोक में रहने-  
वाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८) ।

भोगा स्त्री [भोगा] देवी-विशेष (इक) ।

भोगि पुं [भोगिन्] १ सर्प, सर्पि (सुपा  
३६६; कुप्र २६८) । २ पुंन. शरीर, देह  
(भग २, ५; ७, ७) । ३ वि. भोग-युक्त,  
भोगासक्त, विलासी (सुपा ३६६; कुप्र  
२६८) ।

भोग  
भोच्चा  
भोच्छं } देखो भुंज ।  
भोज

भोट्टं पुं [भोटान्त] १ देश-विशेष, नेपाल  
के समीप का एक भारतीय देश, भोटान ।  
२ भोटान का रहनेवाला (पिण) ।

भोग देखो भोअण (पड्) ।

भोत्त देखो भुत्त (पड्; सुख २, ६; सुपा  
४६५) ।

भोत्तए } देखो भुंज ।  
भोत्तव्व }

भोत्ता देखो भू = भुव = भू ।  
भोत्त वि [भोक्कृ] भोगनेवाला ( वित्ते  
१५६६; दे २, ४८) ।

भोत्तु } देखो भुंज ।  
भोत्तूण }

भोत्तूण देखो भुत्तूण (दे ६, १०६) ।  
भोदूण देखो भू = भुव = भू ।  
भोम वि [भौम] १ भूमि-सम्बन्धी (सूत्र १,  
६, १२) । २ भूमि में उत्पन्न (श्रोष २८;  
जी ५) । ३ भूमि का विकार (ठा ८) ।

४ पुं. मंगल-ग्रह (पात्र) । ५ पुं. नगराकार  
विशिष्ट स्थान । ६ नगर (सम्म १५, ७८) ।  
७ निमित्त-शास्त्र-विशेष, भूमि-कम्पादि से  
शुभाशुभ फल वतलानेवाला शास्त्र (सम  
४६) । ८ अहोरात्र का सत्ताईसवां मुहूर्त;  
'अण्णं च भोग (? म)रिसहे' (सुज १०;  
१३) । ९ लिय न [लोक] भूमि-सम्बन्धी  
मृपावाद (परह १, २) ।

भोमिज्ज देखो भोमेज्ज (सम २; उत २३६;  
२०३) ।

भोमिर देखो भमिर; 'लम्भइ णाइअणंते  
संसारे सुभोमिरो जीवो' (संवोध ३२) ।

भोमेज्ज } वि [भौमेय] १ भूमि का विकार,  
भोमेयग } पावित्र (सम १००; सुपा ४८) ।  
२ पुं. एक देव-जाति, भवनपति नामक देव-  
जाति (सम २) ।

भोरुड पुं [दे] भारंड पक्षी (दे ६, १०८) ।  
भोल सक [दे] ठगना (सुपा ५२२) ।

भोल वि [दे] भद्र, सरल चित्तवाला; गुजराती  
में 'भोळु' । स्त्री. °ला, °लिया (महानि ६;  
सुपा ५१४) ।

भोलग पुं [भोलक] यज्ञ-विशेष, 'भोलगनामा  
जक्खो अग्निर्विद्यपसिद्धिदा अत्यि' (धर्मसं  
१४१) ।

भोलव सक [दे] ठगना, गुजराती में  
'भोळवुं' । संज्ञ. भोलविडं (सुपा २६४) ।

भोलवण न [दे] वञ्चन, प्रतापण (सम्मत्त  
२२६) ।

भोलविय } वि [दे] वञ्चित, ठगा हुआ  
भोलिअ } (कुप्र ४३५; सुपा ५२२) ।

भोइय न [दे] पायेय-विशेष, प्रवन्ध-प्रवृत्त  
पायेय (दे ६, १०८) ।

भोवाल (अप) देखो भू-वाल (भवि) ।  
भोहा (अप) देखो भू = त्रू (पिग) ।

भ्रंति (अप) देखो भंति = भ्रान्ति (हे ४,  
३६०) ।

॥ इअ तिरिपाइअसद्महणवमि भशाराइसद्संकलणो

तीसइमो तरंगो समत्तो ॥

## म

म पुं [म] श्रोष्ठ-स्थानीय व्यञ्जन-वर्ण विशेष  
(प्राप) ।

म अ [मा] मत, नहीं (हे ४, ४१८; कुमा;  
पि २४; ११४; भवि) ।

मअआ व्री [मृगया] शिकार (अभि ५५) ।

मइ व्री [मृति] मौत, मरण (सुर २, १४३) ।

मइ व्री [मति] १ बुद्धि, भेषा, मनीषा;  
'महा मई मणीसा' (पाअ; सुर २, ६५;  
कुमा; प्राप् ७१) । २ ज्ञान-विशेष, इन्द्रिय  
और मन से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान (ठा ४,  
४; णंदि; कम्म ३, १८; ४, ११; १४;  
विसे २७) । ३ अज्ञान न [अज्ञान] विपरीत

मति-ज्ञान, मित्यादर्शन-युक्त मति-ज्ञान (भग  
विसे ११४; कम्म ४, ४१) । ४ णाण,  
०णाण, ०नाण न [ज्ञान] ज्ञान-विशेष  
(विसे १०७; ११४; ११७; कम्म १, ४) ।  
०नाणावरण न [ज्ञानावरण] मति-ज्ञान  
का आवरण कर्म (विसे १०४) । ०नाणि  
वि [ज्ञानिन्] मति-ज्ञानवाला (भग) ।  
०पत्तिया व्री [पात्रिका] एक जैन मुनि-  
शाखा (कप्प) । ०व्भंस पुं [भ्रंश] बुद्धि-  
विनाश (भग; सुपा १३४) । ०म, ०मंत,  
०वंत वि [मन्] बुद्धिमान् (श्रोष्ठ ६३०;  
आचा; भवि) ।

मइ देवो मई = मुगी (कुप्र ४४) ।

मइअ वि [मत्त] मद-युक्त, उन्मत्त (से ७,  
६६; गा ४२८; ७०६; ७६१) ।

मइअ देखो मा = मा ।

मइअ वि [दे. मत्तिक] १ भर्त्सित, तिरस्कृत  
(दे ६, ११४) । २ न. बोये हुए बीजों के  
आच्छादन के काम में लगती एक काष्ठ-मय  
वस्तु, खेती का एक औजार; 'नंगले मइयं  
सिया' (वस ७, २८; परह १, १—पत्र ८) ।

०मइअ वि [मय] व्याकरण-प्रसिद्ध एक  
तद्धित-प्रत्यय, निवृत्त, वना हुआ; 'वम्ममइएहि  
अइसुंदरेहि' (उव), 'जिएपडिमं गोसीत्तचंद-  
णमइयं' (महा) ।

मइआ व्री [मृगया] शिकार (सिरि १११५) ।

मइंद पुं [मैन्द] राम का एक सैनिक, वातर-  
विशेष (से ४, ७; १३, ८३) ।

मइंद पुं [मृगेन्द्र] १ सिंह, पंचानन (प्राक्  
३०; सुर १६, २४२; गउड) । २ छन्द का  
एक नेद (पिग) ।

मइज्ज देखो मईअ = मदीय (पड्) ।

मइत्तो अ [मत्त] मुक्तसे (प्राप्र) ।

मइमोहणी व्री [दे. मत्तिमोहनी] सुरा,  
मदिरा; दाह (दे ६, ११३; पड्) ।

मइरा व्री [मदिरा] ऊपर देखो (पाअ; से  
२, ११; गा २७०; दे ६, ११३) ।

मइरेय न [मैरेय] ऊपर देखो (पाअ) ।

मइल वि [मलिन] मैला, मल-युक्त, अस्वच्छ  
(हे २, ३८; पाअ; गा ३४; प्राप् २५;  
भवि) ।

मइल पुं [दे] कलकल, कोलाहल (दे ६,  
१४२) ।

मइल वि [दे. मलिन] गत-तेजस्क, तेज-  
रहित, फीका (दे ६, १४२; से ३, ४७) ।

मइल सक [मलिनय्] मैला करना, मलिन  
बनाना । मइलइ, मइलेइ, मइलित्ति, मइलित्ति  
(भवि; उव; पि ५५६) । कर्म. मइलिज्जइ  
(भवि; पि ५५६) । वक्र. मइलंत (पउम २,  
१००) । कृ. मइलियव्य (स ३६६) ।

मइल अक [दे. मलिनाय्] तेज-रहित  
होना, फीका लगना । वक्र. मइलंत (से ३,  
४७; १०, २७) ।

मइलण न [मलिनना] मलिन करना (गउड) ।

मइलणा व्री [मलिनना] १ ऊपर देखो  
(श्रोष्ठ ७८८) । २ मालिन्य, मलिनता । ३  
कलकल; 'लइइ कुलं मइलणं जेण' (सुर ६,  
१२०); 'इमाए मइलणाए अमुगम्मि नयत्तना-  
णासन्ने नग्गोहापाये उव्वंघणेण अत्ताणयं  
परिच्चइउं ववसिओ चक्कदेवो' (स ६४) ।

मइलपुत्ती व्री [दे] पुष्पवती, रजस्वला व्री  
(पड्) ।

मइलित्ति वि [मलिनित्ति] मलिन किया हुआ  
(आवक ६५; पि ५५६; भवि) ।

मइल्लि वि [मृत] मरा हुआ । व्री. ०इया,  
'एवं खलु सामी ! पउमावती देवी मइल्लियं  
दारियं पयाया । तए एं कण्णगरेहं राया तीसे  
मइल्लियाए दारियाए नीहरणं करेत्ति, वूहण  
लोइयाइं मयाकिचाइं' (राया १, १४—पत्र  
१८६) ।

मइहर पुं [दे] ग्राम-प्रधान, गाँव का मुखिया  
(दे ६, १२१) । देखो मयहर ।

मई ली [दे] मदिरा, दारू (दे ६, ११३)।  
 मई ली [मृगी] हरिणी, हरिण की मादा,  
 हिरनी (गा २८७; से ६, ८०; दे ३, ४६;  
 कुप्र १०)।  
 मई देखो मइ = मति। °म, °ववि [°मत्]  
 बुद्धिवाला (पि ७३; ३६६; उप १४२ टी)।  
 मईअ वि [मदीय] मेरा, अपना (पड;  
 कुमा; स ४७७; महा)।  
 मउ पुं [दे] पर्वत, पहाड़ (दे ६, ११३)।  
 मउ } वि [°मृदु, °क] कोमल, सुकुमार  
 मउअ } (हे १, १२७; पड; सम ४१; सुर  
 ३, ३७; कुमा)। ली. उई (प्राक २८;  
 गउड)।  
 मउअ वि [दे] वीन, गरीब (दे ६, ११४)।  
 मउइअ वि [मृदुकित] जो कोमल बना  
 हो (गउड)।  
 मउई देखो मउ = मृदु।  
 मउंद पुं [मुकुन्द] १ विष्णु, श्रीकृष्ण  
 (राय)। २ वाद्य-विशेष; 'दुंदुहिमउंदमद्ल-  
 तिलिमापमुहेण तूरसहेण' (सुर ३, ६८),  
 'महामउंदसंठाणसंठिए' (भग)।  
 मउक देखो माउक = मृदुत्व (पड)।  
 मउड पुंन [मुकुट] शिरो-भूषण, किरोट,  
 सिरपेंच (पव ३८; हे १, १०७; प्राप्र;  
 कुमा; पात्र; श्रौप)।  
 मउड } पुं [दे] घम्मिल्ल, कवरी, बूट,  
 मउडि } बूड़ा (पात्र; दे ६, ११७)।  
 मउण देखो मोग (हे १, १६२; चंड)।  
 मउर पुंन [मुकुर] १ बाल-मुष्प, फूल की  
 कली, वौर (कुमा)। २ दर्पण, आईना,  
 शीशा। ३ कुलाल-दण्ड। ४ वकुल का पेड़।  
 ५ मल्लिका-वृक्ष। ६ कोली-वृक्ष। ७ ग्रथि-  
 पर्ण-वृक्ष, चौरक (हे १, १०७; प्राक ७)।  
 मउर } पुं [दे] वृक्ष-विशेष, अपामागं,  
 मउरंद } आंगा, लटजीरा, चिरचिरा (दे ६,  
 ११८)।  
 मउल देखो मउड = मुकुट (से ४, ५१)।  
 मउल पुंन [मुकुल] थोड़ी विकसित कली,  
 कलिका, वौर (रंभा २६)। २ देह, शरीर।  
 ३ आत्मा; 'मउल, मउलो' (हे १, १०७;  
 प्राप्र)।

मउल अक [मुकुलय] संकुचना, संकुचित  
 होना; 'मउलेंति राणणोई' (गा ५)। वक.  
 मउलंत, मउलित (से ११, ६२; पि ४६१)।  
 मउलण न [मुकुलन] संकोच; 'जं चैअ  
 मउलणं लोघणणं' (हे २, १८४; विसे  
 ११०६; गउड)।  
 मउलाअ अक [मुकुलय] १ संकुचना। २  
 सक. संकुचित करना। वक. मउलाअंत  
 (नाट—मालती ५४; पि १२३)।  
 मउलाइय वि [मुकुलित] संकुचाया हुआ,  
 संकोचित (वजा १२६)।  
 मउलाव देखो मउलाअ। कर्म. मउलाविजंति  
 (पि १२३)। वक. मउलावेंत (पउम १५,  
 ८३)।  
 मउलावअ वि [मुकुलायक] संकुचित करने-  
 वाला; 'हरिसविसेतो वियसावअो य मउलावअो  
 य अचछोए' (गउड)।  
 मउलाविय देखो मउलाइय (उप पृ ३२१;  
 सुपा २००; भवि)।  
 मउलि पुंली [दे] हृदय-रस का उच्छलन  
 (दे ६, ११५)।  
 मउलि पुं [मुकुलिन] सर्प-विशेष (पएह १,  
 १—पत्र ८; पएण १—पत्र ५०)।  
 मउलि पुंली [मौलि] १ किरोट, मुकुट, शिरो-  
 भूषण (पात्र)। २ मस्तक, सिर (कुप्र ३८६;  
 कुमा; अजि २२; अचु ३४)। ३ शिरो-  
 वेष्टन विशेष, एक तरह की पगड़ी (पव ३८)।  
 ४ चूड़ा, चोटी। ५ संयत केश। ६ पुं.  
 अशोक वृक्ष। ७ ली. भूमि, पृथिवी (हे १,  
 १६२; प्राक १०)।  
 मउलिअ वि [मुकुलित] १ संकुचित (सुर  
 ३, ४५; गा ३२३; से १, ६५)। २ मुकुला-  
 कार किया हुआ (श्रौप)। ३ एकत्र स्थित  
 (कुमा)। ४ मुकुल-युक्त; कलिका-सहित  
 (राय)।  
 मउवी देखो मउई (हे २, ११३; कुमा)।  
 मऊर पुंली [मयूर] पक्षि-विशेष; मोर (प्राप्र;  
 हे १, १७१; राया १, ३)। ली. °री  
 (विपा १, ३)। °माल. न [°माल] एक  
 नगर (पउम २७, ६)।  
 मऊरा ली [मयूरा] एक रानी, महापद्म  
 चक्रवर्ती की माता (पउम २०, १४३)।

मऊह पुं [मयूख] १ किरण, रश्मि (पात्र)।  
 २ कान्ति, तेज। ३ शिखा। ४ शोभा (हे  
 १, १७१; प्राप्र)। ५ राक्षस वंश के एक  
 राजा का नाम; एक लंका-पति (पउम ५,  
 २६५)।  
 मए सक [मदय] मद-युक्त करना, उन्मत्त  
 बनाना। वक. मएंत (से २, १७)।  
 मएजारिस वि [माहश] मेरे जैसा, मेरे  
 तुल्य; 'मएजारिसाणं पुरिसाहमाणं इमं  
 चैवोचियं' (स ३३)।  
 मं (अप) देखो म = मा (पड; हे ४, ४१८;  
 कुमा)। °कार पुं [°कार] 'मा' अव्यय (ठा  
 १०—पत्र ४६५)।  
 मंकड देखो मकड (आचा)।  
 मंकण पुं [मत्कुण] खटमल, क्षुद्र कीट-विशेष;  
 गुजराती में 'मंकण' (जी १६)।  
 मंकण पुंली [दे. मकंट] बन्दर, वातर। ली.  
 °णी; 'सयमेव मंकणीए धणोए तं कंकणी  
 वढा' (कुप्र १८५)।  
 मंकाइ पुं [मङ्काति] एक अन्तकृद् महर्षि  
 (अंत १८)।  
 मंकार पुं [मकार] 'म' अक्षर (ठा १०—  
 पत्र ४६५)।  
 मंकिअ न [मङ्कित] कूद कर जाना (दे ८,  
 १५)।  
 मंकुण देखो मंकण = मत्कुण (दे; भवि)।  
 °हस्ति पुं [°हस्तिन्] गण्डोपद प्राणि-विशेष  
 (पएण १—पत्र ४६)।  
 मंकुस [दे] देखो मंगुस (गा ७८१)।  
 मंख देखो मक्ख = मक्ष। वक. मंखंत  
 (राज)।  
 मंख पुं [दे] अएड, वृषण (दे ६, ११२)।  
 मंख पुं [मङ्ख] एक भिक्षु-जाति जो चित्र-  
 पट दिखाकर जीवन-निर्वाह करता है (राया  
 १, १ टी; श्रौप; पएह २, ४; पिड ३०६;  
 कप्प)। °फलप न [°फलक] १ मंख का  
 तल्ला। २ निर्वाह-हेतुक चैत्य (पंचा ६,  
 ४५ टी)।  
 मंखण न [अक्षण] १ मन्खन; 'मंखणं व  
 सुकुमालकरचरणा' (उप ६४८ टी)। २  
 अन्वय, मालिश (सुर १२, ८)।



मंखलि पुं [मङ्गलि] एक मंख-मिथु, गोशालक का पिता । °पुत्त पुं [°पुत्र] गोशालक, आजीवक मत का प्रवर्तक एक मिथु जो पहले भगवान् महावीर का शिष्य था (ठा १०; उवा) ।

मंग सक [मङ्ग] १ जाना । २ सावना । ३ जानना । कर्म. मंगिअए (विसे २२) ।

मंग पुं [मङ्ग] १ वर्ष (विसे २२) । २ रंजन-द्रव्य-विशेष, रंग के काम में आता एक द्रव्य (सिदि १०५७) ।

मंगइय देखो मगइय (निर १. १) ।

मंगरिया बी [दे] वाद्य-विशेष (राय) ।

मंगल पुं [मङ्गल] १ ग्रह-विशेष, अंगारक ग्रह (इक) । २ न. कल्याण, शुभ, क्षेम, श्रेय (कुमा) । ३ विवाह सूत्र-बन्धन (स्वप्न ४६) । ४ विघ्न-क्षय (ठा ३, १) । ५ विघ्न-क्षय के लिए किया जाता इष्टदेव-नमस्कार आदि शुभ कार्य । ६ विघ्न-क्षय का कारण, दुरित-नाश का निमित्त (विसे १२; १३; २२; २३; २४; औप; कुमा) । ७ प्रशंसावाक्य, सुखामद (सूत्र १, ७, २५) । ८ इष्टार्थ-सिद्धि, वाञ्छित-प्राप्ति (कप्प) । ९ तप-विशेष, आयविल (संबोध ५८) । १० लगातार आठ दिनों का उपवास (संबोध ५८) । ११ वि. इष्टार्थ-साधक, मंगल-कारक (आव ४) । °ज्भय पुं [°ध्वज] मांगलिक ध्वज (भग) । °तूर न [°तूर्य] मंगल-वाद्य (महा) । °दीव पुं [°दीप] मांगलिक दीप, देव-मन्दिर में आरती के वाद किया जाता दीपक (वर्मवि १२३; पंचा ८, २३) । °पाठय पुं [°पाठक] मागव, चारण (पात्र) । °पाठिया बी [°पाठिका] वीणा-विशेष, देवता के आगे सुवह और सन्ध्या में बजाई जाती वीणा (राज) ।

मंगल वि [दे] १ सट्टा, समान (दे ६, ११८) । २ न. अग्नि आग । ३ डोरा बूने का एक साधन । ४ वन्दनमाला (विसे २७) ।

मंगलया पुंन [मङ्गलक] स्वस्तिक आदि आठ मांगलिक पदार्थ (सुपा ७७) ।

मंगलसम्भ न [दे] वह खेत जिसमें बीज बोना बाकी हो (दे ६, १२६) ।

मंगला बी [मङ्गला] भगवान् श्रीसुमतिनाय की माता का नाम (सम १५१) ।

मंगलालया बी [मङ्गलालया] एक नगरी का नाम (आचू १) ।

मंगलावइ पुं [मङ्गलापातिन्] सौमनस-पर्वत का एक कूट (इक; जं ४) ।

मंगलावई बी [मङ्गलावती] महाविदेह वर्ष का एक विजय, प्रान्त-विशेष (ठा २, ३; इक) ।

मंगलावत्त पुं [मङ्गलावर्त] १ महाविदेह वर्ष का एक विजय, प्रान्त-विशेष (ठा २, ३; इय) । २ देव-विशेष (जं ४) । ३ न. एक देव-विमान (सम १७) । ४ पर्वत-विशेष का एक शिखर (इक) ।

मंगलिअ } वि [माङ्गलिक] १ मंगल-  
मंगलीअ } जनक; 'सअलजीवल्लोअमंगलिय-जम्मलाहस्स' (उत्तर ६०; अचु ३६; सुपा ७८) । २ प्रशंसा-वाक्य बोलनेवाला; 'सुहमंगलीए' (सूत्र १, ७, २५) ।

मंगल वि [मङ्गल्य, माङ्गल्य] मंगल-कारो, मंगल-जनक, मांगलिक; 'पढमाणो जिणगुण-गणनिवद्धमंगल्लवित्ताइ' (वेइय १६०; गाय १, १; सम १२२; कप्प; औप; सुर १, २३८; १५, १७३; सुपा ५५) ।

मंगी बी [मङ्गी] पडज ग्राम की एक मूच्छन्ता (ठा ७—पत्र ३६३) ।

मंगु पुं [मङ्गु] एक सुप्रसिद्ध जैन आचार्य, आर्यमंथु (एदि; ती ७; आत्म २३) ।

मंगुल न [दे] १ अन्निट (दे ६, १४५; सुपा ३३८; सूक्त ८०) । २ पाप (दे ६, १४५; वजा ८; गडड; सूक्त ८०) । ३ पुं. चोर, तस्कर (दे ६, १४५) । ४ वि. असुन्दर, खराब (पात्र, ठा ४, ४—पत्र २७१; स ७१३; दंस ३) । बी. °ली; 'मंगुली एं समणस्स भगवथो महावीरस्स वम्मपएणत्तो' (उवा) ।

मंगुस पुं [दे] नकुल, न्यौला, भुजपरिसर्प-विशेष (दे ६, ११८; सूत्र २, ३, २५) ।

मंच पुं [दे] वक्व (दे ६, १११) ।

मंच पुं [मञ्च] १ मंचान, उंचासन (कप्प; गडड) । २ गणितशास्त्र प्रसिद्ध दश योगों में तीसरा योग, जिसमें चन्द्रादि मंचाकार से

रहते हैं (सुत्र १२—पत्र २३३) । °इमंच पुं [°तिमञ्च] १ मंचान के ऊपर का मञ्च, ऊपर ऊपर रखा हुआ मंच (औप) । २ गणित-प्रसिद्ध एक योग जिसमें चन्द्र, सूर्य आदि नक्षत्र एक दूसरे के ऊपर रखे हुए मंचों के आकार से अपस्थित होते हैं (सुत्र १२) ।

मंची बी [मञ्चा] खटिया, लाट; 'ता आह मंचीए' (सुर १०, १६८; १६९) ।

मंछुडु (अप) अ [मञ्छु] शीत्र, जल्दी (नवि) ।

मंजर पुं [मार्जार] मंजार, विह्ला, विलाव (हे २, १३२; कुमा) । देखो मज्जर, मज्जार । मंजरी बी [मज्जरी] देखो मंजरी (औप) । मंजरिअ वि [मज्जरित] मज्जरी-युक्त; 'मंजरियो चूयानिकरो' (स ७१६) ।

मंजरिआ } बी [मज्जरिका, °री] नवोत्पन्न  
मंजरी } सुकुमार पल्लवाकार लता, वीर (कुमा, गडड) । °गुंडी बी [°गुण्डी] बल्ली-विशेष; 'तोमरिण्डी य मंजरीगुंडी' (पात्र) ।

मंजार देखो मंजर (हे १, २६) ।

मंजिआ बी [दे] तुलसी (दे ६, ११६) ।

मंजिह वि [माञ्जिह] मजीठ रंगवाला, लाल । बी. °ही (कप्प) ।

मंजिह्वा बी [मञ्जिह्वा] मजीठ, रंग-विशेष (कप्प; हे ४, ४३८) ।

मंजीर न [मञ्जीर] १ त्पुरु; 'हंसयं नेउरं च मंजीरं' (पात्र, स ७०४; सुपा ६६) । २ छन्द-विशेष (पिन) ।

मंजीर न [दे] शृङ्खलक, साँकल, जंजीर, सिकड़ (दे ६, ११६) ।

मंजु वि [मञ्जु] १ सुन्दर, मनोहर (पात्र) । २ कोमल, सुकुमार (औप; कप्प) । ३ प्रिय, इष्ट (राय; जं १) ।

मंजुआ बी [दे] तुलसी (दे ६, ११६; पात्र) ।

मंजुल वि [मञ्जुल] १ सुन्दर, रमणीय, मधुर (सम १५२; कप्प; विपा १, ७; पात्र; पिन) । २ कोमल (याया १; १) ।

मंजुसा } बी [मञ्जुसा] १ विदेह वर्ष की  
मंजूसा } एक नगरी (ठा २, ३—पत्र ८०; इक) । २ पिठारो, छोटो सट्टक (सुपा ३२१; कप्प) ।

मंठ वि [दे] १ शठ, लुचा, वदमाश । २ पुं.  
वन्व (दे ६, १११) ।

मंड सक [मण्ड] भूपित करना, सजाना ।  
मंडइ (पड), मंडति (पि ५५७) ।

मंड सक [दे] १ आगे घरना । २ प्रारम्भ  
करना, गुजराती में 'मंडवु'; 'जो मंडइ रण-  
भरधुरहो खंधु' (भवि) ।

मंड पुंन [मण्ड] रस; 'तयाणंतरं च एं  
घयविहिपरिमाणं करेइ, नन्तव्य सारइएणं  
गोषयमंडेणं' (उवा) ।

मंडअ देखो मंडव = मण्डव (नाट—शकु  
६८) ।

मंडअ पुं [मण्डक] खाद्य-विशेष, मांडा,  
मंडग } एक प्रकार की रोटी (उप पृ ११५,  
पव ४ टी; कुप्र ४३; धर्मवि ११६) ।

मंडग वि [मण्डक] विभूषक, शोभा बढ़ाने-  
वाला; 'ससि च.....जोइसमुहमंडगं' ।  
(कप्प) ।

मंडग न [मण्डन] १ भूषण, नूपा (गडड;  
प्रासू १३२) । २ वि. विभूषक, शोभा बढ़ाने-  
वाला (गडड; कुमा) । स्त्री. °गी (प्रासू ६४) ।  
°धाई स्त्री [°धात्री] आभूषण पहनानेवाली  
दासी (राया १, १—पत्र ३७) ।

मंडल पुं [दे-मण्डल] धान, कुत्ता (दे ६,  
११४; पात्र; स ३६८; कुप्र २८०; सम्मत्त  
१६०) ।

मंडल न [मण्डल] १ समूह, यूय (कुमा;  
गडड; सम्मत्त १६०) । २ देश (उप १४२  
टी; कुप्र ४६; २८०) । ३ गोल, वृत्ताकार  
पदार्थ (कुमा; गडड) । ४ गोल आकार से  
वेष्टन (ठा ३, ४—पत्र १६६; गडड) । ५  
चन्द्र-सूर्य आदि का चार-क्षेत्र (सम ६६;  
गडड) । ६ संसार, जगत् (उत्त ३१, ३;  
४; ५; ६) । ७ एक प्रकार का कुष्ठ रोग ।

८ एक प्रकार की वृत्ताकार दाद—दुडु (पिंड  
६००) । ९ श्वित्म; 'डण्डइ ससिमंडलकलस-  
दिएणकंठगहं मयणो' (गडड) । १० सुभटों  
को स्थान-विशेष (राज) । ११ मण्डलाकार  
परिभ्रमण (सुज्ज १, ७; स ३४६) । १२  
इंगित क्षेत्र (ठा ७—पत्र ३६८) । १३ पुं-  
नरकावास-विशेष (दिवेन्द्र २६) । 'व वि  
[°वत्] मण्डल में परिभ्रमण करनेवाला

(सुज्ज १, ७) । °हिवि. पुं [°धिपि] ]  
मण्डलाधीश (भवि) । °हिविइ पुं  
[°धिपिति] वही अर्थ (भवि) ।

मंडल पुंन [मण्डल] योद्धा का युद्ध समय का  
आसन (वव १) । °पवेस पुं [°प्रवेश]  
एक प्राचीन जैन शास्त्र (एंदि २०२) ।

मंडलग पुंन [मण्डलग] तलवार, खड्ग  
(हे ३, ३४; भवि) ।

मंडलय पुं [मण्डलक] एक माप, वारह  
कर्म-मापकों का एक बाट (अपु १५५) ।

मंडलि पुं [मण्डलिन] १ मण्डलाकार चलता  
वायु, चक्र-वात, बवंडर (जो ७) । २ मण्ड-  
लिक राजा; 'तेवीसो सित्वंकरा पुव्वभवे  
मंडलिरायाणो हात्या' (सम ४२) । ३ सपें  
की एक जाति (परह १—पत्र ५१) । ४

न. गोत्र-विशेष, जो कौत्स गोत्र की एक  
शाखा है । ५ पुंस्त्री. उस गोत्र में उत्पन्न (ठा  
७—पत्र ३६०) । °पुरी स्त्री [°पुरी] नगर-

विशेष, गुजरात का एक नगर, जो आजकल  
भी 'मंडल' नाम से प्रसिद्ध है (मुपा ६५६) ।

मंडलिअ वि [मण्डलित] मण्डलाकार बना  
हुआ; 'मंडलियचंडकोदंडमुक्कंडोलिलंडिय-  
सिरेहि' (मुपा ४; वज्जा ६२; गडड) ।

मंडलिअ वि [मण्डलिक, मण्डलिक] १  
मण्डलाकारवाला । २ पुं. मंडल रूप से स्थित  
पर्वत-विशेष (ठा ३, ४—पत्र १६६; परह  
२, ४) । ३ मण्डलाधीश, सामान्य राजा  
(राया १, १; परह १, ४; कुमा; कुप्र  
१२०; महा) ।

मंडली स्त्री [मण्डली] १ पंक्ति, श्रेणी, समूह  
(से ५, ७६; गच्छ २, ५६) । २ अर्थ की  
एक प्रकार की गति (से १३, ६६; महा) ।  
३ वृत्ताकार मंडल—समूह (संघोष १७;  
उव) ।

मंडलीअ देखो मंडलिअ = मण्डलिक; 'तह  
तलवरसेणाहिवकोसाहिवमंडलीयसामंते' (मुपा  
७३; ठा ३, १—पत्र १२६) ।

मंडव पुं [मण्डव] १ विश्राम-स्थान । २  
वह्नी आदि से वेष्टित स्थान (जीव ३; स्वप्न  
३६; महा; कुमा) । ३ स्नान आदि करने का  
गृह; 'न्हाणमंडवंसि', 'भोयणमंडवंसि' (कप्प;  
श्रीप) ।

मंडव न [मण्डव्य] १ गोत्र-विशेष । २ पुंस्त्री.  
उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) ।

मंडविआ स्त्री [मण्डविका] छोटा मण्डप  
(कुमा) ।

मंडव्यायण न [मण्डव्यायन] गोत्र-विशेष  
(सुज्ज १०, १६; इक) ।

मंडावण न [मण्डन] सजाना, विभूषित  
कराना । °धाई स्त्री [°धात्री] सजानेवाली  
दासी (आना २, १५, ११) ।

मंडायय वि [मण्डक] सजानेवाला (निचू ६) ।

मंडि° वि [मण्डित] १ भूपित (कप्प;  
मंडिअ } कुमा) । २ पुं. भगवान् महावीर के  
पष्ठ गणधर का नाम (सम १६; त्रिसे  
१८०२) । ३ एक चोर का नाम (धर्मवि  
७२; ७३) । °कुच्छि पुंन [°कुक्षि] चैत्य-  
विशेष (उत्त २०, २) । °पुत्त पुं [°पुत्र]  
भगवान् महावीर का छठवाँ गणधर (कप्प) ।

मंडिअ वि [दे] रचित, बनाया हुआ । २  
विद्याया हुआ;  
'संसारे हयविहिणा महिलाख्वेण मंडिए पासे ।  
वज्जंति जाणमाणा अयाणमाणावि वज्जंति ॥'  
(रयण ८) ।  
३ आगे घरा हुआ; 'मइ मंडिउ रणभरधुरहो  
खंधु' (भवि) । ४ आरब्ध; 'रण मंडिउ  
कण्ठाहिवेण ताम' (भवि; सण) ।

मंडिल पुं [दे] अपूप, पूआ, पक्वान्न-विशेष  
(दे ६, ११७) ।

मंडी स्त्री [दे] १ पिधानिका, ढकनी (दे ६,  
१११; पात्र) । २ अन्न का अन्न रस, मांड ।  
३ मांडी, कल्प, लेई (आव ४) । °पाहुडिया  
स्त्री [°प्राभृतिका] एक भिक्षा-दोष, अन्न के  
मांडि अथवा मांडी को दूसरे पात्र में रखकर  
दी जाती भिक्षा का ग्रहण (आव ४) ।

मंडुक } देखो मंडूअ (था २८; परह १, १;  
मंडुक } हे २, ६८; पड; पात्र) ।

मंडुक्कलिया स्त्री [मण्डुकिका, °की] १ स्त्री  
मंडुकिया } मेंढक, भेकी, दादुरी (उप १४७  
मंडुकी } टी; १३७ टी) । २ शाक-  
विशेष, वनस्पति-विशेष (उवा; परण १—  
पत्र ३४) ।

मंडुग पुं [मण्डूक] १ मेंढक, वादुर; मंडूअ 'मंडुगगडसरिसो खलु ग्रहिगारो होइ मंडूक सुतस्त' (वव ७; कुमा)। २ वृक्ष-मंडूर विशेष, श्योनाक, सोनापाठा। ३ वन्ध-विशेष (संस्क्रि १७); 'मंडूरो' (प्राप्र)। ४ छन्द-विशेष (पिग)। °प्युअ न [°प्लुत] भेक की चाल। २ पुं, ज्योपि-प्रसिद्ध योग-विशेष, भेक की गति की तरह होनेवाला योग (सुज्ज १२—पत्र २३३)।

मंडोवर न [मण्डोवर] नगर-विशेष (ती १५)।

मंत सक [मन्त्रन्] १ गुप्त परामर्श करना, मसलहत करना। २ आमंत्रण करना। मंतइ (महा; भवि)। भवि. मंतही (अप) (पिग)। वक्र. मंतंत, मंतयंत (सुपा ५३५; ३०७; अग्नि १२०)। संक्र. मंतिअ, मंतिऊण, मंतेऊण (अग्नि १२४; महा)।

मंत पुंन [मन्त्र] १ गुप्त बात, गुप्त आलोचना; 'न कहिज्जइ एसिमेरिसं मंतं' (सिदि ६२५); 'कुट्टिस्सइ वोहिद्वं महिलाजणकहिय-मंतं व' (धर्मवि १३; कुमा)। २ जप्य, जाप करने योग्य प्रणवादिक् अक्षर-पद्धति (खाया १, १४; ठा ३, ४ टो—पत्र १५६; कुमा; प्रासु १४)। °जंभग पुं [°जंभक] एक देव-जाति (भग १४, ५ टो—पत्र ६५४)। °देवथा स्त्री [°देवता] मन्त्राधिष्ठायक देव (आ १)। °न्नु वि [°ज्ञ] मन्त्र का जानकार (सुपा ६०३)। °वाइ वि [°वादिन्] मान्त्रिक, मन्त्र को ही थेंठ माननेवाला (सुपा ५६७)। °सिद्ध वि [°सिद्ध] १ सब मन्त्र जिसके स्वाधीन हों वह। २ बहु-मन्त्र। ३ प्रवान मन्त्रवाला; 'साहोएससव्वमंतो बहुमंतो वा पहाणमंतो वा, नेओ स मंतसिद्धो' (आवम)।

मंत वि [मान्त्र] मन्त्र-सम्बन्धी, मान्त्रिक। स्त्री, 'मंतो ठकारपत्तिव्व' (धर्मवि २०)।

मंत देखो मा = मा।

मंतकख न [दे] १ लज्जा, शरम। २ दुःख (दे ६, १४१)। ३ अपराध; 'न लेइ गत्थं पिणाम-मंतकख' (गडड)।

मंतण न [मन्त्रण] १ गुप्त आलोचना, गुप्त मसलहत (पउम ५, ६६; ८२, ४६)। २ मसलहत, परामर्श, सलाह; 'मंतणत्थं हक्कारिओ अणेषु णिएदत्ततेट्ठो' (कुप्र ११६)। ३ जाप; 'पुरो पुरो मंतमंतणं सुहयं चिदय ७६३)।

मंतर देखो वंतर (कप्य)।

मंता अ [मत्वा] जानकार (सूत्र १, १०, ६; आचा १, १, ५, १; १, ३, १, ३; पि ५८२)।

मंति पुं [मन्त्रिन्] १ मन्त्री, अमात्य, दीवान (कप्य; औप; पाय)। २ वि. मन्त्रों का जानकार (गु १२)।

मंति पुं [दे] विवाह-गणक, जोशी, ज्योतिवित् (दे ६, १११)।

मंतिअ वि [मन्त्रित] गुप्त रीति से आलोचित (महा)।

मंतिअ देखो मंत = मन्त्र्य।

मंतिअ वि [मान्त्रिक] मन्त्र का ज्ञाता; 'मंतेण मंतियस्त व वाणीए ताडिओ तुज्ज' (धर्मवि ६; मन ११)।

मंतिण देखो मंति = मन्त्रिन्; निगूहियो मंति-णेहि कुसलेहि' (पउम २१, ६०; ६५, ८; भवि)।

मंतु वि [मन्तु] १ ज्ञाता, जानकार। २ पुं, जीव, प्राणी (विसे ३५२५)।

मंतु देखो मण्णु (हे २, ४४; पड; निचू २)। °म वि [°मत्] लोषवाला, कोप-युक्त। स्त्री, 'मई (कुमा)।

मंतु पुंन [मन्तु] अपराध; 'मंतुं विलियं विधियं' (पात्र)।

मंतुआ स्त्री [दे] लज्जा, शरम (दे ६, ११६; भवि)।

मंतेहि स्त्री [दे] सारिका, मैना (दे ६, ११६)।

मंथ सक [मन्थ] १ विलोडन करना। २ मारना, हिंसा करना। ३ अक. क्लेश पाना। मंथइ (हे ४, १२१; प्राक. ३३; पड)। कवक. मंथिजंत, मंथिजमाण; मच्छंत (पउम ११३, ३३; सुपा २५१; १६५; परह १, ३—पत्र ५३)। संक्र. मंथित्तु (सम्मत् २२६)।

मंथ पुं [मन्थ] १ दही विलोने—महने का दण्ड, मयनी (पिसे ३८४)। २ केवलिन-समुदाय के समय मन्थाकार किया जाता जीव-प्रदेश-समूह (ठा ६; औप)।

मंथ (अप) देखो मत्थ = मस्त (पिग)।

मंथण न [मन्थन] १ विलोडन, विलोने की क्रिया; 'वीरोअमंथणच्छलिअदुद्धन्ति' (व्व महमहणो' (गा ११७)। २ धर्षण; 'मंथण-जोए अणो' (संघोव १)। ३ पुंन. मयनी, दही आदि मयने की लकड़ी (प्राक १४)।

मंथणिआ स्त्री [मन्थनिका] १ मयनी, महानी, दही मयने की छोटी लकड़ी (राज)। २ मयानी, दधि-कलशी, दही महने की हैंडिया (दे २, ६५)।

मंथणी स्त्री [मन्थनी] ऊपर देखो (दे २, ५५)।

मंथर वि [मन्थर] १ मन्त्र, धोमा (से १, ३८; गडड; पात्र; सुपा १)। २ विलम्ब से होनेवाला (पंचा ६, २२)। ३ पुं. मन्थन-दण्ड; 'वीसाममंथरायमाणसेलवोच्छिणएणदूर-वडणओ' (गडड)।

मंथर वि [दे. मन्थर] १ कुटिल, वक्र, टेढ़ा (दे ६, १४५; भवि)। २ स्त्रीन. कुसुम्भ, वृक्ष-विशेष, कुसुम का पेड़ (दे ६, १४५)। स्त्री. °रा; 'मंथरा कुसुमी' (पात्र)।

मंथर वि [दे] बहु, प्रचुर, प्रभूत (दे ६, १४५; भवि)।

मंथरिय वि [मन्थरित] मन्थर किया हुआ (गडड)।

मंथाण पुं [मन्थान] १ विलोडन-दण्ड; 'तत्तो त्रिसुद्धपरिणाममेवमंथाणमहियभवज-लही' (धर्मवि १०७; दे ६, १४१; वज्जा ४; पात्र; समु १५०)। २ छन्द-विशेष (पिग)।

मंथिअ वि [मथित] विलोडित (दे २, ८८; पात्र)।

मंथु पुंन [दे] १ वदरादि-चूर्ण (परह २, ५; उत ८, १२; सुख ८, १२; दस ५, १, ६८; ५, ३, २४; आचा)। २ चूर्ण; चूर, बुकनी (आचा २, १, ८, ८)। ३ दूध का विकार-विशेष, मट्टा और माखन के बीच की अवस्था वाला पदार्थ (पिड २८२)।

मंद पुं [मन्द] १ ग्रह-विशेष, शनिस्वर (सुर १०, २२४)। २ हाथी की एक जाति (ठा ४, २—पत्र २०८)। ३ वि. अलस, धीमा, मूट्ट (पात्र; प्रात १३२)। ४ अल्प, घोड़ा (प्रात ७१)। ५ मूर्ख, जड़, अज्ञानी (सूत्र १, ४, १, ३१; पात्र)। ६ नीच, लाल; 'मुहमेव ग्रहीणं तह य मंदस्त्' (प्रात १६)। ७ रोग-ग्रस्त, रोगी (उत्त ८, ७)। ० उणिगया स्त्री [पुंण्यका] देवी-विशेष (पंचा १६, २४)। १ भगव वि [भाग्य] कमानसीव (सुपा ३७६; महा)। ० भाअ वि [भाग, भाग्य] वही अर्थ (स्वप्न २२; कुमा)। ० भाइ वि [भागिन्] वही अर्थ (स ७५६; सुपा २२६)। ० भाग देखो भाअ (सुर १०, ३८)।

मंद न [मान्य] १ बीमारी, रोग; 'न य मंदेणं मरई कोइ तिरिओ ग्रहव मणुओ वा' (सुपा २२६)। २ मूर्खता, बेवकूफी; 'वालस्स मंदयं वीय' (सूत्र १, ४, १, २६)।

मंदकख न [मन्दाक्ष] लज्जा, शरम (राज)। मंदग न [मन्दक] गेय-विशेष; एक प्रकार मंदय का गान (राज; ठा ४, ४—पत्र २८५)।

मंदर पुं [मन्दर] १ पर्वत-विशेष, मेरु पर्वत (सुज्ज ५; सम १२; हे २, १७४; कप्प; सुपा ४७)। २ भगवान् विमलनाथ का प्रथम गणधर (सम १५२)। ३ वानरद्वीप का एक राजा, मरुयकुमार का पुत्र (पउम ६, ६७)। ४ छन्द का एक भेद (पिग)। ५ मन्दर-पर्वत का अधिष्ठायक देव (जं ४)। ० पुर न [पुर] नगर-विशेष, (इक)।

मंदा स्त्री [मन्दा] १ मन्द-स्त्री (वज्जा १०६)। २ मनुष्य की दश अवस्थाओं में तीसरी अवस्था २१ से ३० वर्ष तक की दशा (तंडु १६)।

मंदाइणी स्त्री [मन्दाकिनी] १ गंगा नदी, भागीरथी (पउम १०, ५०; पात्र)। २ रामचन्द्र के पुत्र लव की स्त्री का नाम (पउम १०६, १२)।

मंदाय क्रि वि [मन्द] शनैः धीमे से; 'मंदायं मंदायं पव्वइयाए' (जीव ३)।

मंदाय न [मन्दाय] गेय-विशेष (जं १)। मंदार पुं [मन्दार] १ कल्पवृक्ष-विशेष (सुपा १)। २ पारिभद्र वृक्ष। ३ न. मन्दार वृक्ष का फूल; 'मंदारदामरमणिजभूयं' (कप्प; गउड)। ४ परिभद्र वृक्ष का फूल (वज्जा १०६)।

मंदिअ वि [मान्दिक] मन्दता वाला, मन्द; 'वाले य मंदिए मूडे' (उत्त ८, ५)।

मंदिर न [मन्दिर] १ गृह, घर (गउड; भवि)। २ नगर-विशेष (इक; आचू १)।

मंदिर वि [मान्दिर] मन्दिर-नगर का; 'सीह-पुरा सोहा वि य गीयपुरा मंदिरा य बहुणाया' (पउम ५५, ५३)।

मंदीर न [दे] १ शृंखल, सांकल। २ मन्थान-दण्ड (दे ६, १४१)।

मंदुय पुं [दे. मन्दुक] जलजन्तु-विशेष (पएह १, १—पत्र ७)।

मंदुरा स्त्री [मन्दुरा] अश्व-शाला (सुपा ६७)।

मंदोदरी स्त्री [मन्दोदरी] १ रावण-पत्नी मंदोदरी (सि १३, ६७)। २ एक वणिक्-पत्नी (उप ५६७ टी)।

मंदोशण (मा)। वि [मन्दोष्ण] अल्प गरम (प्राक १०२)।

मंघाउ पुं [मान्घाउ] हरिकंश का एक राजा (पउम २२, ६७)।

मंघादण पुं [मन्घादन] मेघ, गाडर; 'जहा मंघादए (? रो) नाम विमिअं भुंजती दगं' (सूत्र १, ३, ४, ११)।

मंघाय पुं [दे] आत्स, श्रीमंत (दे ६, ११६)।

मंभीस (अप)। सक [मा + भी] डरने का निषेध करना, अभय देना। संकृ. मंभीसि वि (भवि)।

मंभीसिय देखो माभीसिअ (भवि)।

मंस पुंन [मांस] मांस, गोशत, पिशित; 'अयमाउतो मंसे अयं अट्टी' (सूत्र २, १, १६; आचा; ओघभा २४६; कुमा; हे १, २६)। ० इत्त वि [वत्] मांस-लोलुप (सुख १, १५)। ० खल न [खल] मांस सुवाने का स्थान (आचा २, १, ४, १)। ० चक्खु पुंन [चक्षुस्] १ मांस-मय चक्षु। २ वि. मांस-मय चक्षुवाला, ज्ञान-चक्षु-रहित; 'अदिस्से

मंसचक्खुणा' (सम ६०)। ० सण वि [शान] मांस-भक्षण (कुमा)। ० सि, ० सिण वि [शिन्] वही अर्थ (पउम १०५, ४४; महा), 'मंसासिणस्स' (पउम २६, ३७)।

मंस न [मांस] फल का गर्भ, फल का गुदा (आचा २, १, १०, ५; ६)।

मंसल वि [मांसल] पीन, पुष्ट, उपचित (पात्र; हे १, २६; पएह १, ४)।

मंसी स्त्री [मांसी] गन्ध-द्रव्य-विशेष, जटामांसी (पएह २, ५—पत्र १५०)।

मंसु पुंन [इमश्रु] बाढ़ी-मूँछ—पुत्र के मुख पर का बाल (सम ६०; ओप; कुमा), 'मंसु' (हे १, २६; प्राप्र), 'मंसुइ' (उवा)।

मंसु देखो मंस; 'मंसुणि सिन्नपुञ्जाई' (आचा)।

मंसुडग न [दे, मांसोन्दुक] मांस-खण्ड (पिड ५८६)।

मंसुल वि [मांसवत्] मांसवाला (हे २, १५६)।

मकंडेअ पुं [मार्कण्डेय] ऋषि-विशेष (अभि २४३)।

मकड पुं [मर्कट] १ वानर, वनरा, वन्दर (गा १७१; उप पृ १८८; सुपा ६०६; दे २, ७२; कुप्र ६०; कुमा)। २ मकड़ा, जाल वनातेवाला क्रीड़ा (आचा; कस; गा ६३; दे ६, ११६)। ३ छन्द का एक भेद (पिग)। ० वंध पुं [वन्ध] बन्ध-विशेष, नाराच-बन्ध (कम्म १, ३६)। ० संताण पुं [संताण] मकड़ा का जाल (पडि)।

मकडवंध न [दे] शृंखलाकार ग्रीवा-भूषण (दे ६, १२७)।

मकडी स्त्री [मर्कटी] वानरी, वनरी (कुप्र ३०३)।

मकल (अप) देखो मकड (पिग)।

मक्कार पुं [माकार] १ 'मा' वर्ण। २ 'मा' के प्रयोगवाली दण्डनीति, निषेध-सूचक एक प्राचीन दण्ड-नीति (ठा ७—पत्र ३६८)।

मक्कुण देखो मंक्कुण (पव २६२; दे १, ६६)।

मकोड पुं [दे] १ यन्त्र-गुम्फनाथ राशि, जन्तर गठने के लिए बनाई जाती राशि (दे ६, १४२)। २ पुंथ्री, कीट-विशेष; चींटा, गुज-राती में 'मकोडो', 'मंकोडो' (निचू १; आचम; जी १६)। स्त्री. ० डा (दे ६, १४२)।

मक्ख सक [अक्ष] १ चुपड़ना, स्नेहान्वित करना । २ घी, तेल आदि स्निग्ध द्रव्य से मालिश करना । मक्खइ (पड़), मक्खंति (उप १७७ टी), मक्खज्ज, मक्खेज्ज (आचा २, १३, २; ३) । हेहू. मक्खेत्ताए (कस) । कू. मक्खियच्च (श्रीष ३८५ टी) ।

मक्खण न [अक्षण] १ मक्खन, नवनीत (स २५८; पभा २२) । २ मालिश, अभ्यंग (निचू ३) ।

मक्खर पुं [अक्खर] १ गति । २ ज्ञान । ३ वंश, वांस । ४ छिद्रवाला वांस (संक्षि १५; पि ३०६) ।

मक्खिअ वि [अक्षित] चुपड़ा हुआ (पाअ; दे ८, ६२; श्रीष ३८५ टी) ।

मक्खिअ न [माक्षिक] मक्खिका-संचित मधु (राज) ।

मक्खिआ ली [मक्षिका] मक्खी (दे ६, १२३) ।

मगइअ वि [दे] हस्त-पाशित, हाथ में बांधा हुआ (विपा १, ३—पत्र ४८; ४९) ।

मगण पुं [मगण] छन्दःशास्त्र-प्रसिद्ध तीन गुरु अक्षरों की संज्ञा (पिण) ।

मगदंतिआ ली [दे] १ मालती का फूल । २ मोगरा का फूल; 'कुमुत्रं वा मगदंतिअ' (दस ५, २, १४; १६) ।

मगदंतिआ ली [दे. मगदन्तिका] १ मेंदी या मेहेंदी का गाछ । २ मेंदी की पत्ती (दस ५, २, १४; १६) ।

मगर पुं [मकर] १ मगर-मच्छ; जलजन्तु-विशेष (पएह १, २; श्रीष; उव; सुर १३, ४२; एयाया १, ४) । २ राहु (सुज्ज २०) । देखो मयर ।

मगरिया ली [मकरिका] वाद्य-विशेष (राय ४६) ।

मगसिर लीन [मृगशिरस्] नज्ज-विशेष, 'कत्थिय रोहिणी मगसिर घट्टा व' (ठा २, ३—पत्र ७७) । ली. 'रा' 'वी मगसिराओ' (ठा २, ३—पत्र ७७) ।

मगह देखो मागह । 'तित्थ न [तीर्थ] तीर्थ-विशेष (इक) ।

मगह } पुं. व. [मगध] देश-विशेष (कुमा) ।  
मगहग } वरच्छ [वराक्ष] आभरण-विशेष

(श्रीष पृ ४८ टि) । 'पुर न [पुर] नगर-विशेष (महा) । देखो मयह ।

मगा अ [दे] पश्चात्, पीछे; मराठी में 'मग' (दे १, ४, टी) ।

मगुंद देखो मउंद = मुकुन्द (उत्तनि ३) ।

मग्ग सक [मार्ग्य] १ मांगना । २ खोजना । मग्गइ, मग्गंति (उव; पड़; हे १, ३४) । वकू. मग्गंत, मग्गमाण (गा २०२; उप ६४८ टी; महा; सुपा ३०८) । संकू. मग्गेविणु (अप) (भवि) । हेहू. मग्गिउं (महा) । कू. मग्गिअच्च, मग्गेयच्च (से १४, २७; सुपा ५१८) ।

मग्ग सक [मग्] गमन करना, चलना । मग्गइ (हे ४, २३०) ।

मग्ग पुं [मार्ग] १ रास्ता, पथ (श्रीष ३४; कुमा; प्रासू ५०; ११७; भग) । २ अन्वेषण, खोज (विसे १३८) । 'ओ अ [तस्] रास्ते से (हे १, ३७) । 'णु वि [ञ्ज] मार्ग का जानकार (उप ६४४) । 'थ वि [स्थ] १ मार्ग में स्थित । २ सोलह से ज्यादा वर्ष की उम्रवाला (सूत्र २, १, ६) । 'दय वि [दय] मार्ग-दर्शक (भग; पडि) । 'विउ वि [वित्] मार्ग का जानकार (श्रीष ८०२) । 'ह वि [व] मार्ग-नाशक (धु ७४) । 'णुसारि वि [नुसारिन्] मार्ग का अनुयायी (वर्म २) ।

मग्ग पुं [मार्ग] १ आकाश (भग २०, २—पत्र ७७५) । २ आचर्यक-कर्म; सामयिक आदि पट्-कर्म (अणु ३१) ।

मग्ग } पुं [दे] पश्चात्, पीछे (दे ६, मग्गअ } १११; से १, ५१; सुर २, ५६; पाअ; भग) ।

मग्गअ वि [मार्गक] मांगनेवाला (पञ्च ६६, ७३) ।

मग्गण पुं [मार्गण] १ याचक (सुपा २४) । २ वाण, शर (पाअ) । ३ न. अन्वेषण, खोज (विसे १३८) । ४ मार्गणा, विचारणा, पर्यालोचन (श्रीष; विसे १८०) ।

मग्गण } ली [मार्गणा] १ अन्वेषण, मग्गणया } खोज (उप पृ २७६; उप ६६२; मग्गणा } श्रीष ३) । २ अन्वय-वर्म के पर्यालोचन द्वारा अन्वेषण, विचारणा, पर्यालोचना (कम्म ४, १; २३; जीवत्त २) ।

मग्गणया ली [मार्गणा] ईहा-ज्ञान, ऊहापोह (एदि १७५) ।

मग्गणियर वि [दे] अनुगमन करने की आदतवाला (दे ६, १२४) ।

मग्गसिर पुं [मार्गशिर] मास-विशेष, मगसिर मास, अगहन (कप्प; हे ४, ३५७) ।

मग्गसिरी ली [मार्गशिरी] १ मगसिर मास की पूर्णिमा । २ मगसिर की अभावस (सुज्ज १०, ६) ।

मग्गिअ वि [मार्गित] १ अन्वेषित, गवेपित (से ६, ३६) । २ मांगा हुआ, याचित (महा) ।

मग्गिर वि [मार्गियित्] खोज करनेवाला (सुपा ५८) ।

मग्गिह वि [दे] पारचात्य, पीछे का (विसे १३२६) ।

मग्गु पुं [मद्गु] पक्षि-विशेष, जल-काक (सूत्र १, ७, १५; हे २, ७७) ।

मव पुं [मव] नेव (भग ३, २; पएण २) ।

मघमघ अक [प्र + सू] फैलना, गन्ध का पसरना; गुजराती में 'मघमघवु', मराठी में 'मघमघवु' । वकू. मघमघंत, मघमघित, मघमघेत (सम १३७; कप्प; श्रीष) ।

मघव पुं [मघवन्] १ इन्द्र, देव-राज (कप्प; कुमा ७, ६४) । २ तृतीय चक्रवर्ती राजा (सम १५२; पञ्च २०, १११) ।

मघवा ली [मघवा] छठवीं नरक-भूमि, 'मघव त्ति माघवत्ति व पुडवीणं नामयेयाई' (जीवत्त ६२) ।

मघा ली [मघा] १ ऊपर देखो (ठा ७—पत्र ३८८; इक) । २ देखो महा = मघा (राज) ।

मघोण पुं [दे. मघवन्] देखो मघव (पड़; पि ४०३) ।

मच्च अक [मच्च] गर्व करना । मच्चइ (पड; हे ४, २२५) ।

मच्च (अप) देखो मंच; 'मंकुणमच्चइ सुत्त वराई' (भवि) ।

मच्च न [दे] मल, मैल (दे ६, १११) ।

मच्च } पुं [मत्थ] मनुष्य, मानुष (स मच्चिअ } २०८; रंभा; पाअ; सूत्र १, ८; २; आचा) । 'लोअ पुं [लोक] मनुष्य-

मच्चणया ली [मार्गणा] ईहा-ज्ञान, ऊहापोह (एदि १७५) ।

मच्चणियर वि [दे] अनुगमन करने की आदतवाला (दे ६, १२४) ।

मच्चसिर पुं [मार्गशिर] मास-विशेष, मगसिर मास, अगहन (कप्प; हे ४, ३५७) ।

मच्चसिरी ली [मार्गशिरी] १ मगसिर मास की पूर्णिमा । २ मगसिर की अभावस (सुज्ज १०, ६) ।

मच्चिअ वि [मार्गित] १ अन्वेषित, गवेपित (से ६, ३६) । २ मांगा हुआ, याचित (महा) ।

मच्चिर वि [मार्गियित्] खोज करनेवाला (सुपा ५८) ।

मच्चिह वि [दे] पारचात्य, पीछे का (विसे १३२६) ।

मच्चु पुं [मद्गु] पक्षि-विशेष, जल-काक (सूत्र १, ७, १५; हे २, ७७) ।

मव पुं [मव] नेव (भग ३, २; पएण २) ।

मघमघ अक [प्र + सू] फैलना, गन्ध का पसरना; गुजराती में 'मघमघवु', मराठी में 'मघमघवु' । वकू. मघमघंत, मघमघित, मघमघेत (सम १३७; कप्प; श्रीष) ।

मघव पुं [मघवन्] १ इन्द्र, देव-राज (कप्प; कुमा ७, ६४) । २ तृतीय चक्रवर्ती राजा (सम १५२; पञ्च २०, १११) ।

मघवा ली [मघवा] छठवीं नरक-भूमि, 'मघव त्ति माघवत्ति व पुडवीणं नामयेयाई' (जीवत्त ६२) ।

मघा ली [मघा] १ ऊपर देखो (ठा ७—पत्र ३८८; इक) । २ देखो महा = मघा (राज) ।

मघोण पुं [दे. मघवन्] देखो मघव (पड़; पि ४०३) ।

मच्च अक [मच्च] गर्व करना । मच्चइ (पड; हे ४, २२५) ।

मच्च (अप) देखो मंच; 'मंकुणमच्चइ सुत्त वराई' (भवि) ।

मच्च न [दे] मल, मैल (दे ६, १११) ।

मच्च } पुं [मत्थ] मनुष्य, मानुष (स मच्चिअ } २०८; रंभा; पाअ; सूत्र १, ८; २; आचा) । 'लोअ पुं [लोक] मनुष्य-

लोक (कुप्र ४११) । लोईय वि [लोकीय] मनुष्य-लोक से सम्बन्ध रखनेवाला (सुपा ५१९) ।

मच्चिअ वि [दि] मल-युक्त (दे ६, १११ दो) ।

मच्चिर वि [मच्चि] गर्व करनेवाला (कुमा) ।

मच्चु पुं [मच्चु] १ मौत, मरण (आचा; सुर २, १३८; प्रासू १०६; महा) । २ यम, यमराज (पड्) । ३ रावण का एक सैनिक (पउम ५६, ३१) ।

मच्च पुं [मच्च] १ मच्छी (आया १, १; पात्र; जो २०; प्रासू ५०) । २ राहु (सुज २०) । ३ देश-विशेष (इक; भवि) । ४ छन्द का एक भेद (पिग) । ५ खल न [खल] मत्स्यों की सुखाने का स्थान (आचा २, १, ४, १) । ६ वंध पुं [वन्ध] मच्छीमार, घोवर (पएह १, १; महा) ।

मच्च पुं न [मच्च] मत्स्य के आकार की एक वनस्पति (आचा २, १, १०, ५; ६) ।

मच्चंडिआ वी [मच्चण्डिका] लण्डशकरा, एक प्रकार की शकर (पएह २, ४; आया १, १७; पएण १७, पिड २८३; मा ४३) ।

मच्चंडी वी [मच्चण्डी] शकर (अणु १४७) ।

मच्चंठ देखो मंथ = मन्थ ।

मच्चंथ देखो मच्च-बंध (विपा १, ८—पत्र ८२) ।

मच्चर पुं [मच्चर] १ ईर्ष्या, द्वेष, डाह, पर-संपत्ति की असहिष्णुता (उव) । २ कोप, क्रोध । ३ वि. ईर्ष्यालु, द्वेषी । ४ क्रोधी । कृपण (हे २, २१) ।

मच्चर न [मात्सर्य] ईर्ष्या, द्वेष (से ३, १९) ।

मच्चरि वि [मत्सरिन्] मत्सरवाला (पएह २, ३; उवा; पात्र) । वी. ० णो (गा ८४; महा) ।

मच्चरिअ वि [मत्सरित्, मत्सरिक] ऊपर देखो (पउम ८, ४९; पंचा १, ३२; भवि) ।

मच्चल देखो मच्चर = मत्सर (हे २, २१; पड्) ।

मच्चिअ देखो मच्चिअ = माक्षिक (पव ४—गाया २२०) ।

मच्चिअ वि [मात्स्यिक] मच्छीमार (आ १२; अमि १८७; विपा १, ६; पिड ६३१) । मच्चिका (मा) देखो माउ = मातृ (प्राक १०२) ।

मच्चिगा देखो मच्चिया (पि ३२०) । मच्चिया वी [माक्षिका] मक्खी (आया मच्छी) १, १६; जो १८; उत्त ३६, ६०; प्राप्र; सुपा २८१) ।

मच्च सक [मच्च] अभिमान करना । मच्चइ, मच्चई, मच्चेज्ज (उव; सूय १, २, २, १; धर्मसं ७८) ।

मच्च अक [मच्च] १ स्नान करना । २ झुवना । मच्चइ (हे ४, १०२), मच्चामा (महा ५७, ७; धर्मसं ८६४) । वक्क. मच्चमाण (गा २४६; आया १, १) । संक. मच्चिऊण (महा) । प्रयो., संक. मच्चविता (जा ३, १—पत्र ११७) ।

मच्च सक [मच्च] साफ करना, मार्जन करना । मच्चइ (पड् प्राक ६६; हे ४, १०५) ।

मच्च न [मच्च] दाह, मदिरा (औप; उवा; हे २, २४; भवि) । इत्त वि [वत्] मदिरा-लोलुप (सुख १, १५) । व वि [प] मद्य-पान करनेवाला (पात्र) । ० वीअ वि [पीत] जिसने मद्य-पान किया हो वह (विपा १, ९—पत्र ९७) ।

मच्चग वि [माद्यक] मद्य-सम्बन्धी; 'अन्नं वा मच्चगं रसं' (दस ५, २, ३६) ।

मच्चण न [मच्चन] १ स्नान । २ झुवना (सुर ३, ७६; कप्पु; गउड; कुमा) । ० वर न [गृह] स्नान-गृह (आया १, १—पत्र १९) । ० वाई वी [धात्री] स्नान कराने-वाली दासी (आया १, १—पत्र ३७) । ० पाली वी [पाली] वही अर्थ (कप्प) ।

मच्चण न [मार्जन] १ साफ करना, शुद्धि (कप्प) । २ वि. मार्जन करनेवाला (कुमा) । ० वर न [गृह] शुद्धि-गृह (कप्प; औप) ।

मच्चर देखो मच्चर (प्राक ५) । वी. ० री; 'को जुन्नमच्चरिं कंजिएण पवियारिउं तरइ' (सुर ३, १३३) ।

मच्चविअ वि [मच्चित] १ स्नपित । २ स्नात; 'एत्थ चरे रे पुंविअ गयवद्धुयाउ मच्चविआ' (वज्जा ९०) ।

मच्च वी [दे. मर्या] मर्यादा (दे ६, ११३; भवि) ।

मच्च वी [मच्च] वातु-विशेष, चर्बी, हड्डी के भीतर का गूदा (सण) ।

मच्चइइ वि [मर्यादिन्] मर्यादावाला (निचू ४) ।

मच्चया वी [मर्यादा] १ न्याय्य-पत्र-स्विति, व्यवस्था; 'रयणावरस्स मच्चया' (प्रासू ६८; आवम) । २ सीमा, हद, अवधि । ३ कुल, किनारा (हे २, २४) ।

मच्चार पुं वी [मार्जार] १ विल्ला, विलाव (कुमा; भवि) । २ वनस्पति-विशेष; 'वत्थुल-पोरगमच्चारपोइवल्लीय पालका' (पएण १—पत्र ३४) । वी. ० रिआ, ० री (कप्पु; पात्र) ।

मच्चार पुं [मार्जार] वायु-विशेष (भग १५—पत्र ६८६) ।

मच्चविअ वि [मच्चित] स्नपित (महा) ।

मच्चिअ वि [दे] १ अवलोकित, निरोक्षित । २ पीत (दे ६, १४४) ।

मच्चिअ वि [मच्चित] स्नात; (पिड ४२३; महा; पात्र) ।

मच्चिअ वि [मार्जित] साफ किया हुआ (पउम २०, १२७; कप्प; औप) ।

मच्चिआ वी [मार्जिता] रसाला, भक्ष्य-विशेष—वहो, शकर आदि का बना हुआ और सुगन्ध से वासित एक प्रकार का साद्य, थोलाइ (पात्र, दे ७, २; पव २५९) ।

मच्चिर वि [मच्चि] मच्चन करने की आवत-वाला (गा ४७३; सण) ।

मच्चोक्क वि [दे] अभिनव, नूतन (दे ६, ११८) ।

मच्च न [मच्च] १ अन्तराल, मन्हार, बीच (पात्र; कुमा; दं ३६; प्रासू ५०; १६७) । २ शरीर का अवयव-विशेष (कप्पु) । ३ संख्या-विशेष, अन्वय और पराव्यं के बीच की संख्या (हे २, ९०; प्राप्र) । ४ वि. मच्चवर्ती, बीच का (प्रासू १२५) । ० एस पुं [देश] देश-विशेष, गंगा और यमुना के बीच का प्रदेश, मच्च प्रान्त (गउड) । ० गय वि [गत] १ बीच का, मच्च में स्थित (आचा; कप्प) । २ पुं. अवधिज्ञान का एक भेद (एवि) ।

भवेत्तय न [°त्रैवेयक] देवलोक्-विशेष (इक) । °द्विअ वि [°स्थित] तटस्य, मध्यस्य (रयण ४८) । °ण्ण, °णह पुं [°ह] दिन का मध्य भाग, दोपहर (प्राप्र; प्राकृ १८, कुमा; अमि ५५; हे २, ८४; महा) । २ न. तप-विशेष, पूर्वार्ध तप (संबोध ५८) । °णहतरु पुं [°ह्नुतरु] वृक्ष-विशेष, मध्याह्न समय में शत्यन्त फूलनेवाले लाल रंग के फूलवाला वृक्ष (कुमा) । °त्य वि [°स्थ] तटस्य (उव; उप ६४८ टी; सुर १६, ६५) । २ बीच में रहा हुआ (सुपा २५७) । °देस देवो °एस (सुर ३, १६) । °त्र देवो °ण्ण (हे २, ८४; सण) । °म वि [°म] मध्य का; ममला, बीच का (भग; नाट—विक्र ५) । °रत्त पुं [°रात्र] निशोय (उप १३६; ७२८ टी) । °रयणि वी [°रजनि] मध्य रात्रि (स ६३६) । °लोग पुं [°लोक] मेरु पर्वत (राज) । °वात्ते वि [°वर्तिन्] अन्तर्गत (मोह ६४) । °वल्लिअ वि [°वल्लित] १ बीच में मुड़ा हुआ । २ चित्त में कुटिल (वज्जा १२) ।

मज्झअ पुं [दे] नापित, नाई, हजाम (दे ६, ११५) ।

मज्झआर न [दे] ममार, मध्य, अन्तराल (दे ६, १२१; विक्र २८; उव; गा ३; विसे २६६१; सुर १, ४५; सुपा ४६; १०३; खा १); 'असोत्तगवण्णियाइ मज्झपारम्मि' (भाव ७) ।

मज्झन्तिअ न [दे] मध्यन्दिन, मध्याह्न (दे ६, १२४) ।

मज्झन्दिण न [मध्यन्दिन] मध्याह्न (दे ६, १२४) ।

मज्झमज्झ न [मध्यमध्य] ठीक बीच (भग; विपा १, १; सुर १, २४४) ।

मज्झगार देवो मज्झआर (राज) ।

मज्झण्हिय वि [माध्याह्निक] मध्याह्न-संबन्धी (धर्मवि १०५) ।

मज्झत्थ न [माध्यस्थ] तटस्थता, मध्यस्थता (उप ६१५; संबोध ४५) ।

मज्झिम वि [मध्यम] १ मध्य-वर्ती बीच का (हे १, ४८; सम ४३; उवा; कप्प; औप;

कुमा) । २ पुं. स्वर-विशेष (ठा ७—पत्र ३६३) । °रत्त पुं [°रात्र] निशोय, मध्य-रात्रि (उप ७२८ टी) ।

मज्झिमगंड न [दे] उदर, पेट (दे ६, १२५) ।

मज्झिमा वी [मध्यमा] १ बीच की उंगली (श्रौष ३६०) । २ एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) ।

मज्झिमिअ वि [मध्यम] मध्य-वर्ती, बीच का (अणु) ।

मज्झिमिअ देवो मज्झिमा (कप्प) ।

मज्झिअ वि [माध्यिक, मध्यम] ममला, बीच का (पव ३६; देवेन्द्र २३८) ।

मट्ट वि [दे] शृङ्ग-रहित (दे ६, ११२) ।

मट्टिआ वी [मृत्तिका] मट्टी, मिट्टी, माटी (णया १, १; औप; कुमा; महा) ।

मट्टी वी [मृत्, मृत्तिका] ऊपर देखो (जी ४; पडि; दे) ।

मट्टुहिअ न [दे] १ परिणीत वी का कोप । २ वि. कलुप । ३ अशुचि, मैला (दे ६, १४६) ।

मट्टु वि [दे] अलस, आलसी, मन्द, जड़ (दे ६, ११२; पाय) ।

मट्टु वि [मृत्] १ मार्जित, शुद्ध (सूअ १, ६; १२; औप) । २ मरण, चिकना (सम १३७; दे ८, ७) । ३ घिसा हुआ (औप; हे २, १७४) । ४ न. मिरच, मरिच (हे १, १२८) ।

मड वि [दे. मृत] १ मरा हुआ, निर्जिव (दे ६, १४१); 'मडोव्व अप्पाणं' (वज्जा १४८), 'मडे' (मा) (प्राकृ १०३) । °इ वि [°दिन्] निर्जिव वस्तु को खानेवाला (भग) । °सिय पुं [°श्रय] शरण (निचू ३) ।

मड पुं [दे] कंठ, गला (दे ६, १४१) ।

मडुअ पुं न [दे. मडम्य] ग्राम-विशेष, जिसके चारों ओर एक योजन तक कोई गाँव न हो ऐसा गाँव (णया १, १; भग; कप्प; औप; पणह १, ३; भवि) ।

मडक पुं [दे] १ गर्व, अभिमान; 'न किंच वयणु संचलिय मडक' (भवि) । २ मटका, कलश, घड़ा; मराठी में 'मडकें' (भवि) ।

मडकिया वी [दे] छोटा मटका, कलशो (कुप्र ११६) ।

मडप्प पुं [दे] गर्व, अभिमान, अहंकार }  
मडप्पर } 'अज्जवि कंठप्पमडप्पखंडणे वहइ  
मडप्पर } पडिचं' (सुपा २६; कुप्र २२१;  
२८४; पड; दे ६, १२०; पाय; सुपा ६;  
प्रासु ८५; कुप्र २५५; सम्मत १८६; वम्म  
८ टी; भवि; सण) ।

मडभ वि [मडभ] कुञ्ज, वामन (राज) ।

मडमड } अक [मडमडाय] ? मड  
मडमडमड } मड आवाज करना । २ सक.

मड मड आवाज हो उस तरह मारना ।

मडमडमडंति (पउम २६, ५३) । भवि.  
मडमडइइशं, मडमडइइशं (मा); (पि ५२८;  
चार ३५) ।

मडमडइअ वि [मडमडायित] 'मड' 'मड'  
आवाज हो उस तरह मारा हुआ (उत्तर  
१०३) ।

मडय न [मृतक] मुड़ा, मुर्दा, शव (पाय; हे  
१, २०६; सुपा २१६) । °गिह न [°गृह]  
कन्न (निचू ३) । °चेइअ न [°चेत्य] मृतक

के दाह होने पर या गाड़ने पर बनाया गया  
चेत्य—स्मारक-मन्दिर (आचा २, १०, १६) ।

°डाह पुं [°दाह] चिता, जहाँ पर शव फूँके  
जाते हैं (आचा २, १०, १६) । °धूमिया

वी [°स्तूपिका] मृतक के स्थान पर बनाया  
गया छोटा स्तूप (आचा २, १०, १६) ।

मडय पुं [दे] आराम, बगीचा (दे ६, ११५) ।

मडवोव्वमा वी [दे] शिविका, पालकी (दे ६,  
१२२) ।

मडह वि [दे] १ लघु, छोटा (दे ६, ११७;  
पाय; सण) । २ स्वल्प, थोड़ा (गा १०५;  
स ८; गउड; वज्जा ४२) ।

मडहर पुं [दे] गर्व, अभिमान (दे ६, १२०) ।

मडहिय वि [दे] अल्पीकृत, न्यून किया हुआ  
(गउड) ।

मडहुअ वि [दे] लघु, छोटा; 'मडहुअियाए  
किं तुह इमीए किं वा वलेहि तलियोहि'  
(वज्जा ४८) ।

मडिआ वी [दे] समाहृत वी, आहृत महिला  
(दे ६, ११४) ।

मडुवइअ वि [दे] १ हत, विच्वस्त । २  
तोषण (दे ६, १४६) ।

मडु सक [मृत्] मर्दन करना । मडुइ (हे ४,  
१२६; प्राकृ ६८) ।

मङ्गल पुं [दे. मङ्गल] वाद्य-विशेष (राय ४६) ।

मङ्गल स्त्री [दे] १ बलात्कार, हठ, जवरदस्ती (दे ६, १४०, पात्रः सुर ३, १३६; सुख २, १५) । २ आज्ञा, हुकुम (दे ६, १४०, सुपा २७६) ।

मङ्गल वि [मर्दित] जिसका मर्दन किया गया हो वह (हे २, ३६; पङ्; पि २६१) । मङ्गल देखो मङ्गल (राज) ।

मङ्गल देखो मङ्गल । मङ्गल (हे ४, १२६) ।

मङ्गल पुंन [मठ] संन्यासियों का आश्रय, व्रतियों का निवासस्थान; 'मठो' (हे १, १६६; सुपा २३४; वज्रा ३४; भवि); 'मठ' (प्राप्र) ।

मङ्गल देखो मङ्गल (कुमा) ।

मङ्गल वि [दे] १ ललित; गुजराती में 'मढेनु', 'एयाउ श्रोसहीश्रो तिघाउमढियाउ वारिज्जा' (सिरि ३७०) । २ परिवेष्टित (दे २, ७५; पात्र) ।

मठी स्त्री [मठिका] छोटा मठ (सुपा ११३) । मण सक [मन्] १ मानना । २ जानना । ३ चिन्तन करना । मणइ, मणसि (पङ्; कुमा) । कवक, मणिल्लमाण (भग १३, ७; विसे ८१३) ।

मण पुंन [मनस्] मन, अन्तःकरण, चित्त (भग १३, ७; विसे ३५२५; स्वप्न ४५; दं २२; कुमा; प्रासू ४४; ४८; १२१) । अगुत्ति स्त्री [अगुत्ति] मन का असंयम (पि १५६) । करण न [करण] चिन्तन, पर्यालोचन (श्रावक ३३७) । गुत्त वि [गुत्त] मन को संयम में रखनेवाला (भग) । गुत्त स्त्री [गुत्ति] मन का संयम (उत्त २४, २) । जाणुअ वि [ज्ञ] १ मन को जाननेवाला, मन का जानकार । २ सुन्दर, मनोहर (प्राक १८) । जीविअ वि [जीविक] मन को आत्मा माननेवाला (पह १, २—पत्र २८) । जोअ पुं [योग] मन की चेष्टा, मनो-व्यापार (भग) । ज्ञ, ण्णु, ण्णुअ देखो जाणुअ (प्राक १८; पङ्) । थंभणी स्त्री [स्तम्भनी] विद्या-विशेष, मन को स्तब्ध करनेवाली दिव्य शक्ति (पउम ७, १३७) । नाण न [ज्ञान] मन का साक्षात्कार करनेवाला ज्ञान, मनः-

पर्यव ज्ञान (कम्म ३, १८; ४, ११; १७; २१) । नाणि वि [ज्ञानिन्] मनः-पर्यव नामक ज्ञानवाला (कम्म ४, ४०) । पज्जत्ति स्त्री [पर्याप्ति] पुद्गलों को मन के रूप में परिणत करने की शक्ति (भग ६, ४) । पज्जव पुं [पर्यव] ज्ञान-विशेष, दूसरे के मन की अवस्था को जाननेवाला ज्ञान (भग; श्रौप; विसे ८३) । पज्जवि वि [पर्यविन्] मनः-पर्यव ज्ञानवाला (पव २१) । पसिण-विज्जा स्त्री [प्रश्नविद्या] मन के प्रश्नों का उत्तर देनेवाली विद्या (सम १२३) । वलिअ वि [वलिन, क] मनो-बलवाला, दृढ़ मनवाला (पह २, १; श्रौप) । मोहण वि [मोहन] मन को भुग्व करनेवाला, चित्ताकर्षक (गा १२८) । योगि वि [योगिन्] मन की चेष्टावाला (भग) । वर्गाणा स्त्री [वर्गाणा] मन के रूप में परिणत होनेवाला पुद्गल-समूह (राज) । वज्ज न [वज्र] एक विद्याधर-नगर (इक) । समिइ स्त्री [समिति] मन का संयम (ठा ८—पत्र ४२२) । समिय वि [समित] मन को संयम में रखनेवाला (भग) । हंस पुं [हंस] छन्द-विशेष (पिग) । हर वि [हर] मनोहर, सुन्दर, चित्ताकर्षक (हे १, १५६; श्रौप; कुमा) । हरण पुंन [हरण] पिगल-प्रसिद्ध एक मात्र-पद्धति (पिग) । भिराम, भिरामेळ वि [अभिराम] मनोहर (सम १४६; श्रौप, उप पृ ३२२; उप २२० टी) । म वि [आप] सुन्दर, मनोहर (सम १४६; विपा १, १; श्रौप; कप्प) । देखो मणो ।

मण देखो मणयं (प्राक ३८) ।

मणसि वि [मनस्विन्] प्रशस्त मनवाला (हे १, २६) । स्त्री. णी (हे १, २६) ।

मणसिल स्त्री [मनःशिला] लाल वरुण मणसिला की एक उपधातु, मनशिल, मनशिल (कुमा; हे १, २६) ।

मणग पुं [मनक] एक जैन बाल-मुनि, महर्षि शय्यभवसूरि का पुत्र और शिष्य (कप्प; धर्मवि ३८) । देखो मणय ।

मणगुलिया स्त्री [दे] पीठिका (राय) ।

मणण न [मनन] १ ज्ञान, जानना । २ समझना (विसे ३५२५) । ३ चिन्तन (श्रावक ३३७) ।

मणय पुं [मनक] द्वितीय नरक-भूमि का तीसरा नरकेन्द्रक—नरकावास-विशेष (दिवेन्द्र ६) । देखो मणग ।

मणयं अ [मनाग्] अल्प, थोड़ा (हे २, १६६; पात्र; पङ्) ।

मणस देखो मण = मनस्; 'पसन्नमणसो करिस्सामि' (पउम ६, ५६), 'लाभो चैव तवस्सिस्स होइ अदीणमणसस्स' (श्रौष ५३७) ।

मणसिल देखो मणसिला (कुमा; हे १, मणसिला) २६; जी ३; स्वप्न ६४) ।

मणसीकय वि [मनसिकृत] चिन्तित (पण्य ३४—पत्र ७८२; सुपा २४७) ।

मणसीकर सक [मनसि + क] चिन्तन करना, मन में रखना । मणसीकरे (उत्त २, २५) ।

मणस्सि देखो मणसि (धर्मवि १४६) ।

मणा देखो मणयं (हे २, १६६; कुमा) ।

मणाउ (अप) ऊपर देखो (कुमा; भवि; पि मणाउं) ११४; हे ४, ४१८; ४२६) ।

मणागं ऊपर देखो (उप १३२; महा) ।

मणाल देखो मुणाल (राज) ।

मणालिया स्त्री [मृणालिका] पद्म-कन्द का मूल (तंदु २०) । देखो मुणालिआ ।

मणालिया देखो मणसिला (हे १, २६; पि ६४) ।

मणि पुं स्त्री [मणि] पत्थर-विशेष, मुक्ता आदि रत्न (कप्प; श्रौप; कुमा; जी ३; प्रासू ४) । अंग पुं [अङ्ग] कल्प-वृक्ष की एक जाति जो आभूषण देती है (सम १७) । आर पुं [कार] जौहरी, रत्नों के गहनों का व्यापारी (दे ७, ७७; मुद्रा ७६; राया १, १३; धर्मवि ३६) । कंचण न [काञ्चन] कनिम-पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३—पत्र ७०) । कूड न [कूट] रुचक पर्वत का एक शिखर (दीव) । कखइअ वि [खचित] रत्न-जटित (पि १६६) । चइया स्त्री [चयिता] नगरी-



विशेष (विपा २, ६) । °चूड पुं [°चूड] एक विद्या-धर रूप (महा) । °जाल न [°जाल] भूपण-विशेष, मणि-माला (श्रीप) । °तोरण न [°तोरण] नगर-विशेष (महा) । °प देखो °व (से ६, ४३) । °पेडिया स्त्री [°पीठिका] मणि-मय पीठिका (महा) । °प्यभ पुं [°प्रभ] एक विद्याधर (महा) । °भद पुं [°भद्र] एक जैन मुनि (कप्प) । °भूमि स्त्री [°भूमि] मणि खचित जमीन (स्वप्न ५४) । °मइय, °मय वि [°मय] मणि-मय, रत्न निर्वृत्त (सुपा ६२; महा) । °रह पुं [°रथ] एक राजा का नाम (महा) । °व पुं [°व] १ यक्ष । २ सर्प; नाग (से २, २३) । ३ समुद्र (से ६, ५०) । °वई स्त्री [°मती] नगरी-विशेष (विपा २, ६—पत्र ११४ टि) । °बंध पुं [°वन्ध] हाथ और प्रकोष्ठ के बीच का अयव (सण) । °वाल्य पुं [°पालक, °वालक] समुद्र (से २, २३) । °सलागा स्त्री [°शलाका] मद्य-विशेष (राज) । °हियय पुं [°हृदय] देव-विशेष (दीव) ।

मणिअ न [मणित] संभोग-समय का स्त्री का अयव शब्द (गा ३६२; रभा) ।

मणिअं देखो मणयं (पड; हे २, १६६; कुमा) ।

मणिअड (अप) पुं [मणि] माला का सुमेर (हे ४, ४१४) ।

मणिच्छिअ वि [मनईरिसत] मनोऽभीष्ट (सुपा ३८४) ।

मणिज्जमाण देखो मण = मन् ।

मणिट्ट वि [मनइष्ट] मन को प्रिय (भवि) ।

मणिणायहर न [दे: मणिनागगृह] समुद्र, सागर (दे ६, १२८) ।

मणिरइआ स्त्री [दे] कवीसूत्र (दे ६, १२६) ।

मणीसा स्त्री [मनीपा] बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा (पात्र) ।

मणीसि वि [मनीपिन्] बुद्धिमान्, परिणत (कप्प) ।

मणीसिद वि [मनीपित] वाञ्छित (नाट—मृच्छ ५७) ।

मणु पुं [मनु] १ स्मृति-कर्ता मुनि-विशेष (विसे १५०; उप १५० टी) । २ प्रजापति-

विशेष; 'बोहमणुचोगुणो' (कुमा; राज) । ३ मनुज, मनुष्य; 'देवताश्रो मणुत्त' (पउम २१, ६३; कम्म १, १६; २ १६) । ४ न. एक देव-विमान (सम २) ।

मणुअ पुं [मनुज] १ मनुष्य, मानव (उवा; भग; हे १, ८; पात्र; कुमा; स ८२; प्रासू ४५) । २ भगवान् श्रेयांसनाय का शासन-यज्ञ (संति ७) । ३ वि. मनुष्य-सम्बन्धी; 'तिरिया मणुया य दिव्वगा उवसग्गा तिविहाहिया-सिया' (सूत्र १, २, २, १५) ।

मणुइंद्र पुं [मनुजेन्द्र] राजा, नरपति (पउम ८५, २२; सुर १, ३२) ।

मणुई स्त्री [मनुजी] मनुष्य-स्त्री, नारी, महिला (संदि १२६ टी) ।

मणुएसर पुं [मनुजेश्वर] ऊपर देखो (सुपा २०४) ।

मणुज्ज } वि [मनोज्ज] सुन्दर, मनोहर  
मणुण्ण } (पात्र; उप १४२ टी; सम १४६; भग) ।

मणुस } पुं स्त्री [मनुष्य] १ मानव, मत्स्यं  
मणुस्स } (आचा; पि ३००; आचा; ठा ४, २; भग; आ २८; सुपा २०३; जो १६; प्रासू २८) । स्त्री. °स्सी (भग; पण १८; पत्र २४१) । °खेत्त न [°क्षेत्र] मनुष्य-लोक (जीव ३) । °सेणियापरिकम्म-पुं [°श्रेणिकापरिकम्मन्] दृष्टिवाद का एक सूत्र (सम १२८) ।

मणुस्स वि [मानुष्य] मनुष्य-सम्बन्धी, 'दिव्वं व मणुस्सं वा तेरिच्छं वा सरागहियाएणं' (आप २१) ।

मणुस्सिद पुं [मनुष्येन्द्र] राजा, नर-पति (उत्त १८, ३७; उप ४ १४२) ।

मणुस देखो मणुस्स (हे १, ४३; औप; उवर १२२; पि ६३) ।

मणे अ [मन्थे] विमर्श-सूचक अव्यय (हे २, २०७; पड; प्राक २६; गा १११; कुमा) ।

मणो देखो मण = मनस् । °गम न [°गम] देवविमान-विशेष, 'पालगपुष्कगवोमणएससिरि-वच्छन्दिवावत्तकामगमपीत्तिगमणोमणमविल-सव्वशोभदूसारिसनामवेज्जेहि विमाणेहि ओ-इएणा' (अप) । °ज्ज वि [°ज्ज] १ सुन्दर, मनोहर (हे २, ८३; उप २६४ टी) । २

पुं. गुल्म-विशेष; 'सरियए खोनालियकोरिटय-वत्थुजीवगमणोज्जे' (पण १—पत्र ३२) । °ण्ण, °ज्ज वि [°ज्ज] सुन्दर, मनोहर (हे २, ८३; पि २७६) । °भव पुं [°भव] कामदेव, कन्दर्प (सुपा ६८; पिग) । °भिरमणिज्ज वि [°भिरमणीय] सुन्दर, चित्ताकंपक (पउम ८, १४३) । °भू पुं [°भू] कामदेव, कन्दर्प (कप्प) । °मय वि [°मय] मानसिक; 'सारोमणोमयाणि दुक्खाणि' (पण १, ३—पत्र ५५) । °माणसिय वि [°मानसिक] मन में ही रहनेवाला-वचन से अप्रकटित-मानसिक दुःख आदि (णाया १, १—पत्र २६) । °रम वि [°रम] १ सुन्दर, रमणीय (पात्र) । २ पुं. एक विमानेन्द्रक, देवविमान-विशेष (दिवेन्द्र १३६) । ३ मेरु पर्वत (सुज्ज ५) । ४ राक्षस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति (पउम ५, २६५) । ५ किन्नर-देवों को एक जाति । लूक द्वीप का अग्निप्रायक देव (राज) । ७ तृतीय श्रेयिक-विमान (पव १६४) । ८ आठवें देवलोक के इन्द्र का पारिवानिक विमान (इक) । ९ एक देव-विमान (सम १७) । १० मिथिला का एक चैत्य (उत्त ६, ८; ९) । ११ उपवन-विशेष (उप ६८६ टी) । °रमा स्त्री [°रमा] चतुर्थं वासु-देव की पटरानी का नाम (पउम २०, १८६) । २ भगवान् सुपाश्वनाय की दीक्षा-शिविका (सुपा ७५; विचार १२६) । ३ राक्ष की अञ्जुका नामक इन्द्राणी की एक राजधानी (इक) । °रह पुं [°रथ] १ मन का अमिलाप (औप; कुमा; हे ४, ४१४) । २ पक्ष का तृतीय दिवस (सुज्ज १०, १४—पत्र १४७) । °हंस पुं [°हंस] छन्द-विशेष (पिग) । °हर पुं [°हर] १ पक्ष का तृतीय दिवस (सुज्ज १०, १४) । २ छन्द-विशेष (पिग) । ३ वि. रमणीय, सुन्दर (हे १, १५६; पड; स्वप्न ५२; कुमा) । °हरा स्त्री [°हरा] भगवान् पद्मप्रस की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) । °हव देखो °भव (स ८१; कप्प) । °हिराम वि [°भिराम] सुन्दर (भवि) । मणोसिला देखो मणंसिला (हे १, २६; कुमा) ।

मण्ण देखो मण = मन् । मण्णइ (पि ४८८) ।

कर्म. मरिण्णज्जइ (कुप्र १०६)। वहु.  
मण्णमाण (नाट. चैत १३३)।

मण्णण न [मानन] मानना, आदर (उप  
१५४)।

मण्णा देखो मन्ना (राज)।

मण्णिय देखो मन्त्रिय (राज)।

मण्णु देखो मन्तु (गा ११; ५०८; दे ६, ७१;  
वेणो १७)।

मण्णे देखो मणे (कप्प)।

मत्त वि [मत्त] १ मद-युक्त, मतवाला (उवा;  
प्रासू ६४; ६८; भवि)। २ न. मद्य, दाह  
(ठा ७)। ३ मद, नशा (पत्र १७१)। ४ जला  
की [जला] नदी-विशेष (ठा २, ३; इक)।  
मत्त देखो मेत्त = मात्र, 'वयणमत्तमिट्ठारण'  
(रंभा)।

मत्त न [अमत्र, मात्र] पात्र, भाजन (आचा  
२, १, ६, ३; श्लेष २५१)। देखो मत्तय।  
मत्त (अप) देखो मच्च = मत्त (भवि)।

मत्तंगय पुं [मत्ताङ्गक, °द] कल्पवृक्ष की  
एक जाति, मद्य देनेवाला कल्पतरु (सम १७;  
पत्र १७१)।

मत्तंड पुं [मार्तण्ड] सूर्य, रवि (सम्मत १४५,  
सिरि १००८)।

मत्तग न [दे] पेशाब, मूत्र (कुलक ६)।

मत्तग } पुंन [अमत्र, मात्रक] १ पात्र,  
मत्तय } भाजन। २ छोटा पात्र; विइज्जओ  
मत्तयो होई (वृह ३; कप्प)।

मत्तय देखो मत्तग = दे (कुलक १३)।

मत्तली वी [दे] बलात्कार (दे ६, ११३)।

मत्तवारण पुंन [मत्तवारण] वरंडा, वरामदा,  
दालान (दे ६, १२३; सुर ३, १००;  
भवि)।

मत्तवाल पुं [दे] मतवाला, मदोन्मत्त (दे ६,  
१२२, पड; सुख २, १७; सुखा ४८६)।

मत्ता वी [मात्रा] १ परिमाण (पिड ६५१)।  
२ अंश, भाग, हिस्सा (स ४८३)। ३ समय  
का सूक्ष्म नाप। ४ सूक्ष्म उच्चारण-कालवाला  
वर्णविषय (पिंग)। ५ अल्प, लघु, लव (पात्र)।

मत्ता अ [मत्ता] जानकर (सूत्र १, २, २,  
३२)।

मत्तालंय पुं [दे. मत्तालन्थ] वरंडा, वरा-  
मदा (दे ६, १२३; सुर १, ५७)।

मत्तिया वी [मृत्तिका] मिट्टी (परण १—  
पत्र २५)। १ वई वी [वती] नारी-विशेष,  
दशाण्डेश की राजधानी (पत्र २७५)।

मत्थ पुंन [मस्त, °क] माया, सिर (सि  
मत्थग } १. १, स ३८५; श्लेष)। २ थ्य वि  
मत्थय } [°स्थ] सिर में स्थित (गजड)।  
३ मणि पुं [°मणि] शिरोमणि, प्रधान, मुख्य  
(उप ६४८ टी)।

मत्थय पुंन [मस्तक] गर्भ, फल आदि का  
मध्यभाग—अन्तःसार (आचा २, १, ८,  
६)।

मत्थयधोय वि [दे. धौतमस्तक] दासत्व  
से मुक्त, गुलामी से मुक्त किया हुआ (गाया  
१, १—पत्र ३७)।

मत्थुलुंग } न [मस्तुलुङ्ग] १ मस्तक-स्तेह,  
मत्थुलुय } सिर में से निकलता एक प्रकार  
का चिकना पदार्थ (परह १, १; तंदु १०)।

२ मेद का फिफिस आदि (ठा ३, ४—पत्र  
१७०; भग; तंदु १०)।

मत्थिय देखो महिअ = मथित (परह २, ४—  
पत्र १३०)।

मद देखो मय = मद (कुमा; प्रयो १६; पि  
२०२)।

मद (मा) देखो मय = मृत (प्राक १०३)।

मदग देखो मयण (स्वप्न ६३; नाट—मृच्छ  
२३१)।

मदणसला(गा) देखो मयणसलागा (परण  
१—पत्र ५४)।

मदणा देखो मयणा = मदना (गाया २—पत्र  
२५१)।

मदणिल्ल वि [मदनीय] कामोद्दीपक, मदन-  
वर्धक (गाया १, १—पत्र १६; श्लेष)।

मदि देखो मइ = मति (मा ३२; कुमा; पि  
१६२)।

मदीअ देखो मईअ (स २३२)।

मदुवी देखो मडई (चंड)।

मदुली वी [दे] द्वी, द्वी कर्म करनेवाली  
वी (पड)।

मदसक [सट्ट] १ चूर्ण करना। मालिश  
करना, मसलना, मलना। मद्दाहि (कप्प)।  
कर्म, मद्दीअदि (नाट—मृच्छ १३५)। हेक.  
मदिडं (पि ५८५)।

मदण न [मर्दन] १ अंग-चप्पी, मालिश  
(सुपा २४)। २ हिता करना: 'तसयावरभूय-  
मदणं विविहं' (उव)। ३ वि. मर्दन करने-  
वाला (ती ३)।

मदल पुं [मर्दल] वाद्य-विशेष, मुरज, मुदंग  
(दे ६, ११६; सुर ३, ६८; सिरि १५७)।

मदलिअ वि [मार्दलिक] मुदंग बजानेवाला  
(सुपा २६४; ५५३)।

मद्व न [मार्दव] मृदुता, नम्रता, विनय,  
अहंकार-निग्रह (श्लेष; कप्प)।

मद्वि वि [मार्दविन्] नम्र, विनीत: 'अज्ज-  
वियं मददवियं जाधवियं' (सूत्र २, १, ५७;  
आना)।

मद्विअ वि [मार्दविक, °त] ऊपर देखो  
(वृह ४; वव १)।

मद्विअ देखो मड्डिअ (पात्र)।

मद्दी वी [माद्री] १ राजा शिशुपाल की मा-  
का नाम (सूत्र १, ३, १, १ टी)। २ राजा  
पाण्डु की एक वी का नाम (वेणो १७१)।

मदुदुअ पुं [मदुदु] भगवान् महावीर का  
राजगृह-निवासी एक उपासक (भग १८,  
७—पत्र ७५०)।

मदुदुग पुं [मदुगु, °क] पक्षि-विशेष, जल-  
वायस (भग ७, ६—पत्र ३०८)। देखो  
मरगु।

मदुदुग देखो मुदुग (राज)।

मधु देखो महु (पड; रंभा; पिंग)।

मधुवाद पुं [मधुवात] एक म्लेच्छ-जाति  
(मृच्छ १५२)।

मधुर देखो महुर (निचू १; प्राक ८५)।

मधुसित्थ देखो महुसित्थ (ठा ४, ४—पत्र  
२७१)।

मधुला वी [दे. मधूला] पाद-गण्ड (राज)।  
मन अ [दे] निषेधार्थक अव्यय, मत, नहीं  
(कुमा)।

मनुस्स देखो मणुस्स (चंड; भग)।

मन्न देखो मण्ण मन्नइ, मत्तसि (आचा; महा),  
मन्तंते, मन्तंसि (रंभा)। कर्म, मत्तिज्जट  
(महा); वहु. मन्नंत, मन्नमाण (सुर १४,  
१७१; आचा; महा; सुपा ३०७; सुर ३,  
१७४)।

मञ्ज देखो माण = मानय् । क. मञ्ज, मञ्जाय  
मञ्जणिज्ज, मञ्जियच्च, मञ्जिय (उप  
१०३६; धर्मवि ७६; भवि; सुर १०; ३८;  
सुपा ३६८; ठा १ टी—पत्र २१; सं ३५) ।

मञ्जा छी [मनन] १ मति; बुद्धि (ठा १—  
पत्र १६) । २ आलोचन, चिन्तन (सूत्र २  
१, ४१; ठा १) ।

मञ्जा छी [मान्या] ग्रन्थुपगम, स्वीकार (ठा  
१—पत्र १६) ।

मञ्जाय देखो मञ्ज = मानय् ।

मञ्जाविय वि [मानित] मनाया हुआ (सुपा  
१५६) ।

मञ्जिय वि [मत] माना हुआ (सुपा ६०५;  
कुमा) ।

मन्नु पुं [मन्यु] १ क्रोध, गुस्ता (सुपा  
६०४) । २ दैत्य, वीरता; 'सोयसमुन्मूयगल्य-  
मन्नुवता' (सुर ११, १४४) । ३ अहंकार ।  
४ शोक, अफसोस । ५ क्रु, यत्न (हे २,  
२५; ४४) ।

मन्नुइय वि [मन्यवित] मन्यु-युक्त, कुपित  
(सुत्र ४, १) ।

मन्नुसिय वि [दे] उद्विग्न (स ५६६) ।

मन्ने देखो मण्णे (हे १, १७१; रंभा) ।

मपप न [दे] माप, बाँट; 'तेण य सह वर-  
णेण आणेवि य तत्स हट्टमप्पाणि' (सुपा  
३६२) ।

मव्भीसडी (अप) छी [मा भैपी:] अनय-  
मव्भीसा } वचन (हे ४, ४२२) ।

ममकार पुं [ममकार] ममत्व, मोह, प्रेम,  
ल्लेह (गच्छ २, ४२) ।

ममच्चय वि [मदीय] मेरा (सुत्र २, १५) ।

ममत्त न [ममत्व] ममता, मोह, ल्लेह (सुपा  
२६) ।

ममया छी [ममता] ऊपर देखो (पंचा १५,  
३२) ।

ममा सक [ममाय्] ममता करना । ममाइ,  
ममायए (सूत्र २, १, ४२; उव) । वक्क.  
ममायमाणं, ममायमीण (आचा; सूत्र २,  
६, २१) ।

ममाइ वि [ममत्विन्] ममतावाला (सूत्र १,  
१, १, ४) ।

ममाइय वि [ममायित] जिसपर ममता की  
गई हो वह (आचा) ।

ममाय वि [दे] ग्रहण करना । ममायंति  
(दस ६, ४६) ।

ममाय वि [ममाय] ममत्व करनेवाला (नित्तु  
१३) ।

ममि वि [मामक] मेरा, मदीय; 'ममं वा  
ममि वा' (सूत्र २, २, ६) ।

ममूर सक [चूर्णय्] चूरना । ममूरइ (वात्वा  
१४८) ।

मम्म पुं [मर्मन्] १ जीवन-स्थान । २  
सन्धि-स्थान (गा ४४६; उप ६६१; हे १,  
३२) । ३ मरण का कारण-भूत वचन आदि  
(आया १, ८) । ४ गुप्त बात (प्रासू ११;  
सुपा ३०७) । ५ रहस्य, तावयं (धु २८) ।  
'य वि [ग] मर्म-वाचक (शब्द) (उत्त १,  
२५; सुत्र १, २५) ।

मम्मक पुं [दे] गर्व, अहंकार (पड) ।

मम्मका छी [दे] १ उत्कण्ठा । २ गर्व (दे  
६, १४३) ।

मम्मण न [मम्मन] १ अव्यक्त वचन (दे २,  
६१; दे ६, १४१; विपा १, ७; वा २६) ।  
२ वि. अव्यक्त वचन बोलनेवाला (आ १२) ।

मम्मण पुं [दे] १ मदन, कन्दर्प । २ रोप,  
गुस्ता (दे ६, १४१) ।

मम्मणिआ छी [दे] नील मसिका (दे ६,  
१२३) ।

मम्मर पुं [मर्मर] शुष्क पत्तों की आवाज  
(गा ३६५) ।

मम्मह पुं [मम्मथ] कामदेव, कन्दर्प (गा  
४३०; अमि ६५) ।

मम्मी छी [दे] मामी; मानुल-पत्नी (दे ६,  
११२) ।

मय न [मत] मनन, ज्ञान (सूत्र २, १,  
५०) । २ अभिप्राय, आशय (ओघनि १६०;  
सूत्रनि १२०) । ३ समय, दर्शन, धर्म;  
'समयो मय' (पात्र; सम्मत्त २२८) । ४ वि.  
माना हुआ (कम्म ४, ४६) । ५ इष्ट, अभीष्ट  
(सुपा ३७१) । 'न्तु वि [ंज्ञ] वारंनिक  
(सुपा ५८२) ।

मय पुं [मय] १ उष्ट्र, ऊँट (सुत्र ६, १) ।  
२ अश्वतर, खचर; 'भयमहिससरहकेसरि—'

(पउम ६, ५६) । ३ एक विद्याधर-नरेश  
(पउम ८, १) । 'हर पुं [धर] ऊँटवाला  
(सुत्र ६, १) ।

मय वि [मृत] मरा हुआ, जीव-रहित (आया  
१, १; उव; सुर २, १८; प्रासू १७; प्राप्र) ।  
'किच न [कृत्य] मरण के उपलक्ष में  
किया जाता आदि कर्म (विपा १, २) ।

मय पुं [मद] १ गर्व, अतिमान; 'एवाइं  
मयाइं विगिच घोरा' (सूत्र १, १३, १६;  
सम १३; उप ७२८ टी; कुमा; कम्म २,  
२६) । २ हाथी के गण्ड-स्थल से भरता  
प्रवाही पदार्थ (आया १, १—पत्र ६५;  
कुमा) । ३ आमोद, हर्ष । ४ कस्तूरी । ५  
मत्तता, नशा । ६ नद, बड़ी नदी । ७ वीर्य,  
शुक्र (प्राप्र) । 'करि पुं [करिन्] मदवाला  
हाथी (महा) । 'गल वि [कल] १ मद से  
उत्कट, नरों में चूर; 'मग्गलकुंजरगमयी'  
(पिग) । २ पुं. हाथी (सुपा ६०; हे १,  
१८२; पात्र; दे ६, १२५) । ३ छन्द-विशेष  
(पिग) । 'णासणी छी [नाशनी] विद्या-  
विशेष (पउम ७, १४०) । 'वम्म पुं [धर्म]  
विद्याधर-वंश के एक राजा का नाम (पउम  
५, ४३) । 'मंजरी छी [मंजरी] एक छी  
का नाम (महा) । 'वारण पुं [वारण]  
मदवाला हाथी; 'मयवारणो उ मत्तो तिवा-  
डियालाणवरल्लो' (महा) ।

मय पुं [मृग] १ हरिण (कुमा; उप ७२८  
टी) । २ पशु, जानवर । ३ हाथी की एक  
जाति । ४ नक्षत्र-विशेष । ५ कस्तूरी । ६  
मकर राशि । ७ अन्वेषण । ८ याचन,  
मांग । ९ यज्ञ-विशेष (हे १, १२६) । 'च्छी  
छी [क्षी] हरिण के नेत्रों के समान नेत्र-  
वाली (सुर ४, १६; सुपा ३५५; कुमा) ।  
'णाह पुं [नाथ] सिंह (स १११) । 'णाहि  
पुं [नाभि] कस्तूरी (पात्र; सुपा २००;  
गउड) । 'तण्हा छी [तृष्णा] धूप में जल-  
आन्ति (दे; से ६, ३५) । 'तण्हा छी  
[तृष्णा] वही अर्थ (पि ३७५) । 'तिण्हा  
देखो 'तण्हा (पि ५४) । 'तिण्हा देखो  
'तण्हा (पि ५४) । 'धुत्त पुं [धूर्त्त]  
शृगाल, सियार (दे ६, १२५) । 'नाभि  
देखो 'णाहि (कुमा) । 'राय पुं [राज]

सिंह, केसरी (पउम २, १७; उप पृ ३०) ।  
 °लंछण पुं [°लाञ्छन] चन्द्रमा (पात्रः  
 कुमा; सुर १३, ५३) । °लोचना लो  
 [°रोचना] गोरौचन, गोरौचना, पीत-वर्ण  
 द्रव्य-विशेष (अभि १२७) । °रि पुं [°रि]  
 सिंह (पात्र) । °रिद्रमण पुं [°रिद्रमन]  
 राजस-वंश का एक राजा; एक लंका-पति  
 (पउम ५, २६२) । °रिद्रि पुं [°रिद्रि]  
 सिंह, केसरी (पात्र; स ६) । देखो मित्र,  
 मिग = मृग ।

मयंक } देखो मित्रक (हे १, १७७; १८०;  
 मयंग } कुमा; पड; ना ३६६; रंभा) ।

मयंग देखो मयंग = मारंग; कूबर वरुणो  
 निजडी गोमेहो वामण मयंगो (पव २६) ।

मयंग पुं [मृदङ्ग] वाद्य-विशेष (प्राकृ ८) ।

मयंगय पुं [मयङ्गय] हाथी, हस्ती (पउम  
 ८०, ६६; उप पृ २६०) ।

मयंगा ली [मृताङ्गा] जहाँ पर गंगा का  
 प्रवाह रुक गया हो वह स्थान (शाया १,  
 ४—पत्र ६६) ।

मयंतर न [मतान्तर] भिन्न मत, अन्य मत  
 (नग) ।

मयंद देखो मयंद = मृनेन्द्र (सुपा ६२) ।

मयंध वि [मदान्ध] मद के कारण अन्धा बना  
 हुआ, मदोन्मत्त (सुर २, ६६) ।

मयग वि [मृतक] १ मरा हुआ । २ न,  
 मुर्दा (शाया १, ११; कुप्र २६; श्रौप) ।

°किञ्च न [°कृत्य] श्राद्ध आदि कर्म (शाया  
 १, २) ।

मयड पुं [दे] आराम, वसोडा (दे ६,  
 - ११५) ।

मयण पुं [मदन] १ कन्दर्प, कामदेव (पात्रः  
 धण २५; कुमा; रंभा) । २ लक्ष्मण का  
 एक पुत्र (पउम ६१, २०) । ३ एक वणिक्-  
 पुत्र (सूगा ६१७) । ४ छन्द का एक नेद  
 (पिंग) । ५ वि. मद-कारक, मादक; 'मयणा  
 दरनिव्वलिया निव्वलिया जह कोड्वा तिचिहा'  
 (विंत् १२२०) । ६ न. मोन, मोम; 'मयणो  
 मयणं विन्न विलोयो' (धण २५; पात्रः सुर  
 २, २४६) । °घरिणी ली [°गृहिणी]  
 काम-प्रिया, रति (कुप्र-१०६) । °तालक पुं

[°तालक] छन्द-विशेष (पिंग) । °तेरसी  
 ली [°त्रयोदशी] चैत्र मास की शुक्ल  
 त्रयोदशी तिथि (कुप्र ३७८) । °दुम पुं  
 [°दुम] वृक्ष-विशेष (सि ७, ६६) । °फल न  
 [°फल] फल-विशेष, मैनफल; 'तत्रो तेषुप्यलं  
 मयणफलेण भावियं मणुस्त्वहृषे दिन्नं, एयं  
 वरुडस्त देजाहि' (मुत्त २, १७) । °भंजरी  
 ली [°भंजरी] १ राजा चण्डप्रद्योत की एक  
 ली का नाम । २ एक श्रेष्ठ-कन्या (महा) ।  
 °रेहा ली [°रेखा] एक पुत्रराज की पत्नी  
 (महा) । °वेय पुं [°वेग] पुष्प-विशेष का  
 नाम (भवि) । °सुंदरी ली [°सुन्दरी] राजा  
 श्रीगाल की एक पत्नी (सिदि ५३) । °हरा  
 ली [°गृह] छन्द-विशेष (पिंग) । °हल देखो  
 °फल; 'मयणहलगंघरो ता उव्वमिया चंद-  
 हासपुरा' (वर्धवि ६५) ।

मयणकुस पुं [मदनाकुश] श्रीरामचन्द्र का  
 एक पुत्र, कुश (पउम ६७, ६) ।

मयणसलागा } ली [दे. मदनशालाका]  
 मयणसलाया } मैना, सारिका (जीव १  
 टी—पत्र ४१, दे ६, ११६) ।

मयणसाला ली [दे. मदनशाला] सारिका-  
 विशेष (परह १, १—पत्र ८) ।

मयणा ली [दे. मदना] मैना, सारिका  
 (उप १२६ टी, आत्र १) ।

मयणा ली [मदना] १ वैरोचन कलीन्द्र की  
 एक पटरानी (ठा ५, १—पत्र ३०२) । २  
 शक्र के लोकपाल की एक ली (ठा ४, १—  
 पत्र २०४) ।

मयणाय पुं [मैनाक] १ द्वीप-विशेष । २  
 पर्वत-विशेष (भवि) ।

मयणिज्ज देखो मदणिज्ज (कप्प; परण १७) ।

मयणिवास पुं [दे] कन्दर्प, कामदेव (दे ६,  
 १२६) ।

मयर पुं [मकर] १ जलजन्तु-विशेष, मगर-  
 मच्छ (श्रीप; सुर १३, ४६) । २ राशि-  
 विशेष, मकर राशि (सुर-१३, ४६; विचार  
 १०६) । ३ रावण का एक सुभट (पउम ५६;  
 २६) । ४ छन्द-विशेष (पिंग) । °केड पुं  
 [°केतु] कामदेव, कन्दर्प (कप्प) । °द्वय  
 पुं; [°ध्वज] वही (पात्र; कुमा; रंभा) ।  
 °लंछण पुं [°लाञ्छन] वही (कप्प; पि

५४) । °हर पुं [°गृह] वही (पात्र; से  
 १, १८; ४, ४८; वजा १५४; भवि) ।

मयरंद पुं [दे. मकरन्द] पुष्प-रज, पुष्प-  
 पराग (दे ६, १२३; पात्र; कुमा ३, ५४) ।

मयरंद पुं [मकरन्द] पुष्प-रस, पुष्प-मधु (दे  
 ६, १२३; सुर ३, १०; प्रासू ११३; कुमा) ।

मयल देखो मइल = मलिन (सुपा २६२) ।

मयलगा देखो मइलगा (सुपा १२४; २८६) ।

मयलयुत्ती [दे] देखो मइलयुत्ती (दे ६,  
 १२५) ।

मयलिअ देखो मलिगिअ (उप ७२८ टी) ।

मयल्लिगा ली [मताल्लिका] प्रयात, श्रेष्ठ,  
 'कूडक्खरविओ(उ)मयल्लिगाण' (रंभा १७) ।

मयह देखो मगह । °सामिय पुं [°सामिन्]  
 मगध देश का राजा (पउम ६१, ११) ।

°पुर न [°पुर] राज-गृह नगर (वसु) ।

°हिंविइ पुं [°धिपति] मगध देश का राजा  
 (पउम २०, ४७) ।

मयहर पुं [दे] १ ग्राम-प्रधान, ग्राम-प्रवर,  
 गाँव का मुखिया (पव २६८; महा; पउम  
 ६३; १६) । २ वि. वडील, मुखिया, नायक;  
 'सयलहत्थारोहपहाणमयहरेण' (स २८०;  
 महानि ४; पउम ६३, १७) । ली. °रिगा,  
 °रिया, °री (उप १०३१ टी; सुर १, ४१;  
 महा; सुपा ७६; १२६) ।

मयाई ली [दे] शिरो-माला (दे ६, ११५) ।

मयार पुं [मकार] १ 'म' अक्षर । २ मका-  
 रादि अक्षर-श्रवण-शब्द; 'जय्य जयार-  
 मयारं समणो जंपइ निहृत्थपच्चत्तं' (गच्छ  
 ३, ४) ।

मयाल (अप) देखो मराल (पिंग) ।

मयालि पुं [मयालि] जैन महापि-विशेष—  
 १ एक अन्तर्कृद् मुनि (अंत १४) । २ एक  
 अनुत्तर-नामी मुनि (अनु १) ।

मयाली ली [दे] लता-विशेष, मित्राकरी लता  
 (दे ६, ११६; पात्र) ।

मर अक [मृ] मरना । मरड, मरण (हे ४,  
 २३४; मग; उव; महा; पड) । मरं (हे ३,  
 १४१) । मरिजड, मरिजड (भवि; पि ४७७) ।  
 भूका. मरही, मरीअ (आचा; पि ४६६) ।  
 भवि. मरिस्सति. (पि ५२२) । वक्. मरंत,

मरमाण (ना ३७५; प्राप् ६४; चुपा ४०५; मग; चुपा ६५१; प्राप् ८३) । संक. मरिज्जग (पि ५८६) । हेक. मरिउं, मरेउं (संकि ३४) । क. मरियव्व (अंत २४; चुपा २१५; ५०१; प्राप् १०६), मरिण्वउं (अप) (हे ४, ४३८) ।

मर पुं [दि] १ मशक । २ उल्लू, घूक (दि ६, १४०) ।

मरअद् } पुंन [मरअत्त] नील वर्णवाला  
मरगय } रत्न-विशेष, पद्मा (संकि ६; हे १, १८२; औप; पड; गा ७५; काप्र ३१); 'परिकम्मिओवि बहुतो काओ कि मरगयो होइ' (कुप्र ४०३) ।

मरजीवय पुं [दि. मरजीवक] समुद्र के भीतर उतर कर जो वस्तु निदातने का काम करता है वह (सिदि ३८५) ।

मरट्ट पुं [दि] गर्व, अहंकार (दि ६, १२०; नुर ४, १५४; प्राप् ८५; तो ३; नवि; सण; हे ४, ४२२; सिदि ६६२); 'अखिलमइ (?र)ट्टकंअपमहणे लद्धजयपडायस्त' (धर्मवि ६७) ।

मरट्टा बी [दि] उल्लस,

'एइइ अहहृरिआवणिममरट्टाई'  
( ?इ ) लज्जमाणाइ ।  
दिवफलाई उब्बंयणं व  
वत्तीसु विरयंति ॥  
(कुप्र २६६) ।

मरट्ट (अप) देखो मरहट्ट (पिग) ।

मरह देखो मरहट्ट । जी. 'डी' (कप्पु) ।

मरण पुंन [मरण] मौत, मृत्यु (आचा; मग; पाप्र; जी ४३; प्राप् १०७; ११३); सिता मरणा सव्वे तवभवमरणेण एयाव्वा' (पव १५७) ।

मरल सक मराल = मराल, हंस (प्राक ५) ।

मरह सक [मृप] क्षमा करना; 'खमंतु मरहंतु एं देवाणुप्पिवा' (याया १, ८—पत्र १३५) ।

मरहट्ट पुंन [महाराष्ट्र] १ बड़ा देश । २ देश-विशेष, महाराष्ट्र, मराठा; 'मरहट्टो मरहट्ट' (हे १, ६६; प्राक ६; कुमा) । ३ नुराष्ट्र (कुमा ३, ६०) । ४ पुं. महाराष्ट्र देश का

निवासी, मराठा (पएह १, १—पत्र १४; पिग) । ५ अन्ध-विशेष (पिग) ।

मरहट्टी बी [महाराष्ट्री] १ महाराष्ट्र की रहनेवाली स्त्री । २ प्राकृत भाषा का एक भेद (पि ३५४) ।

मराल वि [दि] मलत्त, मन्द. प्रातसी (दि ६, ११२; पाप्र) ।

मराल पुं [मराल] १ हंस पक्षी (पाप्र) । २ अन्ध-विशेष (पिग) ।

मराली बी [दि] १ मारती, भारत पक्षी की मादा । २ दूती । ३ जलो (दि ६, १४२) ।

मरिअ वि [मृन] मरा दुप्रा (सम्मत्त १३६) । मरिअ वि [दि] १ मुदित; दुप्रा दुप्रा । २ विस्तोरुं (पड) ।

मरिअ देखो मरिअ (प्रवी १०५; नास ८ टी) ।

मरिइ देखो मरीइ; 'अह उणन्ने नाणे मियास्त, मरिइ तयो य निक्खंते' (पउम ८२, २५) ।

मरिस सक [मृप] नहन करना, क्षमा करना । मरिसइ, मरिसेइ, मरिसेउ (हे ४, २३५; महा; स ६७०) । क. मरिसिवच्च (स ६७०) ।

मरिसावणा बी [मरिणा] क्षमा (स ६७१) ।

मरीइ पुं [मरीचि] १ भगवान् अथभदेव का एक पौत्र और भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जो भगवान् महावीर का जीव था (पउम ११, ६४) । २ पुंजी. किरण (पएह १, ४—पत्र ७२; धर्मसं ७२३) ।

मरीइया बी [मरीचिका] १ किरण-समूह । २ मृग-वृष्णा, किरण में जल भ्रान्ति (राज) ।

मरीचि देखो मरीइ (औप; मुज १, ६) ।

मरीचिया देखो मरीइया (औप) ।

मरु पुं [मरुत्] १ पवन, वायु । २ देव, देवता । ३ सुगन्धो वृक्ष-विशेष, मरुया, मरुवा (पड) । ४ हनुमान का पिता (पउम ५३, ७६) । 'णंदण पुं [णंदण] हनुमान (पउम ५३, ७६) । 'सुय पुं [सुत] वही (पउम १०१, १) । देखो मरुअ = मरु ।

मरु } पुं [मरु, क] १ निर्जल देश  
मरुअ } (याया १, १६—पत्र २०२; औप) । २ देश-विशेष, मारवाड़ (तो ५; महा; इक; पएह १, ४—पत्र ६८) । ३

पर्वत, ऊँचा पहाड़ (निपु ११) । ४ अन्ध-विशेष, मरुया, मरुवा (पएह २, ५—पत्र १५०) । ५ ब्राह्मण, धिप्र (मुज २, २७) । ६ एक वृष-वंश । ७ मरु-वंशोय राजा; 'वस व पुट्टोए वंदो वणपडययं व होइ याताए' । मरुवाएणं अद्रुययं' (पिआर ४६३) । ८ मरु देश का निवासी (पएह १, १) । कंतार न [कान्तार] निर्जल जंगल (अव्वु ८५) । 'स्थली बी [स्थली] मरु-भूमि (महा) । 'भू बी [भू] वरी (आ २३) । 'य वि [ज] मरु देश में उत्पन्न (पएह १, ४—पत्र ६८) ।

मरुअ देखो मरु = मरुत् (पएह १, ४—पत्र ६८) । २ एक देव-पति (डा २, २) । 'कुमार पुं [कुमार] बानरसोप के एक राजा का नाम (पउम ६, ६७) । 'वसव पुं [वृषभ] इन्द्र (पएह १, ४—पत्र ६८) ।

मरुअअ } पुं [मरुअक] अन्ध-विशेष, मरुया,  
मरुअग } मरुवा (गउड; पएह १—पत्र ३४) ।

मरुआ बी [मरुआ] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अंत) ।

मरुइणी बी [मरुकिणी] ब्राह्मण-स्त्री, ब्राह्मणी (विते ६२८) ।

मरुंड देखो मुरुंड (अंत; औप; याया १, १—पत्र ३७) ।

मरुकुंद पुं [दि. मरुकुन्द] मरुया, मरुवे का गाछ (नवि) ।

मरुग देखो मरुअ = मरुक (पएह १, १—पत्र १४; इक) ।

मरुदेव पुं [मरुदेव] १ ऐश्वर्य क्षेत्र में उत्पन्न एक चिनदेव (सम १५३) । ३ एक कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०; पउम ३, ५५) ।

मरुदेवा } बी [मरुदेवा, 'वी] १ भगवान्  
मरुदेवी } अथभदेव की माता का नाम (उव; सम १५०; १५१) । २ राजा श्रेणिक की एक पत्नी, जिसने भगवान् महावीर के पात दोषा लेकर मुक्ति पाई थी (अंत) ।

मरुदेवा बी [मरुदेवा] भगवान् महावीर के पात दोषा लेकर मुक्ति पानेवाली राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अंत २५) ।

मरुल पुं [दे] भूत-पिशाच (दे ६, ११४) ।  
 मरुवय देखो मरुअअ (गा ६७७; कुमा; विक्र २६) ।  
 मरुस देखो मरिस । मरुसिज (भवि) ।  
 मरु सक [मरु] वारण करना (भग ६, ३३ टी—पत्र ४८०) ।  
 मरु देखो मरु । मरुइ, मरुइ (हे ४, १२६; प्राकृ ६८; भवि), मरुमि (से ३, ६३), मरुति (सुर १, ६७) । कर्म, मरुज्जइ (पंचा १६, १०) । वक्र, मरुत (से ४, ४२) । कवक, मरुज्जंत (से ३, १३) । संक, मरुज्जण, मणिज्जण (कुमा; पि ५८५) । क, मरुव्व (वै ६६; निसा ३) ।  
 मरु पुं [दे] स्वेद, पसीना (दे ६, १११) ।  
 मरु पुंन [मरु] १ मैल (कुमा; प्रांसू २५) । २ पाप (कुमा) । ३ वंवा हुआ कर्म (चिद्वय ६२२) ।  
 मरुपिअ वि [दे] गर्वी, अहंकारी (दे ६, १२१) ।  
 मरुण न [मरुण, मरुण] मरुण, मरुणा (सम १२५; गउड; दे ३, ३४; सुपा ४४०; पंचा १६, १०) ।  
 मरुय पुं [दे, मरुक] आस्तरण-विशेष (साया १, १—पत्र १३; १, १७—पत्र २२६) ।  
 मरुय पुं [दे, मरुय] १ पहाड़ का एक भाग (दे ६, १४४) । २ उद्यान, वगीचा (दे ६, १४४; पात्र) ।  
 मरुय पुं [मलय] १ दक्षिण देश में स्थित एक पर्वत (सुपा ४५६; कुमा; पड) । २ मलय-पर्वत के निकट-वर्ती देश-विशेष (पत्र २७५; पिंग) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) । ४ देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १४३) । ५ न. श्रीखण्ड, चन्दन (जीव ३) । ६ पुंजी. मलय देश का निवासी (परह १, १) । ० केउ पुं [केतु] एक राजा का नाम (सुपा ६०७) । ० गिरि पुं [गिरि] एक सुप्रसिद्ध जैन आचार्य और ग्रन्थकार (इक; राज) । ० चंद पुं [चन्द्र] एक जैन उपासक का नाम (सुपा ६४५) । ० हिं पुं [हिं] पर्वत-विशेष (सुपा ४७७) । ० भव वि [भव] १ मलय देश में उत्पन्न । २ न. चन्दन (गउड) । ० मई स्त्री

[मती] राजा मलयकेतु की स्त्री (सुपा ६०७) । ० य [ज] देखो ० भव (राज) । ० रुह पुं [रुह] चन्दन का पेड़ (सुर १, २८) । २ न. चन्दन-काष्ठ, (पात्र) । ० चिल पुं [चिल] मलय पर्वत (सुपा ४५६) । ० णिल पुं [णिल] मलयाचल से ब्रह्मा शीतल पवन (कुमा) । ० यिल देखो ० चिल (रंभा) ।  
 मलय वि [मालय] १ मलय देश में उत्पन्न (अणु) । २ न. चन्दन (भवि) ।  
 मलयट्टी स्त्री [दे] तल्ली, युवति (दे ६, १२४) ।  
 मलहर पुं [दे] तुमुल-व्वनि (दे ६, १२०) ।  
 मलि वि [मलिन्] मलवाला, मल-युक्त (भवि) ।  
 मलिअ वि [मृदित] जिसका मदन किया गया हो वह (गा ११०; कुमा; हे ३, १३५; औप; साया १, १) ।  
 मलिअ न [दे] १ लघु क्षेत्र । २ कुण्ड (दे ६, १४४) ।  
 मलिअ वि [मलित] मल-युक्त, मलिन; 'मलमलयदेहवत्था' (सुपा १६६; गउड) ।  
 मलिज्जंत देखो मल = मृद ।  
 मलिण वि [मलिन] मैला, मल-युक्त (कुमा; सुपा ६०१) ।  
 मलिणिय वि [मलिनित] मलिन किया हुआ (उव) ।  
 मलीमस वि [मलीमस] मलिन, मैला (पात्र) ।  
 मलेव्व देखो मल = मृद ।  
 मलेच्छ देखो मिलिच्छ पि ८४; नाट—चैत १८) ।  
 मल सक [मल्ल] देखो मल = मल (भग ६, ३३ टी) ।  
 मल पुं [मल] १ पहलवान, कुश्ती लड़ने-वाला, बाहु-योद्धा (औप; कण्य; परह २, ४; कुमा) । २ पात्र; 'दीवसिहापडिपिल्लण-मल्ले मिलंति नोसासे' (कुप्र १३१) । ३ भीत का अवग्रहमन-स्तम्भ । ४ छप्पर का आचार-भूत काष्ठ (भग ८, ६—पत्र ३७६) । ० जुद्ध न [युद्ध] कुश्ती (कण्य; हे ४, ३८२) । ० दित्र पुं [दित्त] एक राज-

कुमार (साया १, ८) । ० वाइ पुं [वादिन्] एक सुविख्यात प्राचीन जैन आचार्य और ग्रंथकार (सम्मत १२०) ।  
 मल्ल न [माल्य] १ पुष्प, फूल (ठा ४, ४) । २ फूल की गुंथी हुई माला (पात्र; औप) । ३ मस्तक-स्थित पुष्पमाला (हे २, ७६) । ४ एक देव-विमान (सम ३६) । ५ वलि; 'मल्लं ति वलीए णामं' (आव ० चूर्ण ० भा ० १ पत्र ३३२) ।  
 मल्लइ पुं [मल्लिक, किन्] तृप-विशेष (भग; औप; पि ८६) ।  
 मल्लग न [दे, मल्लक] १ पात्र-विशेष, मल्लय शराव (विसे २४७ टी; पिड २१०; तंदु ४४; महा; कुलक १४; साया १, ६; दे ६, १४५; प्रयौ ६७) । २ चपक, पानपात्र (दे ६, १४५) ।  
 मल्लय न [दे] अपूप-भेद, एक तरह का पूसा । २ वि. कुमुम्भ से रक्त (दे ६, १४५) ।  
 मल्लाणी स्त्री [दे] मातुलानी, मामी (दे ६, ११२; पात्र; प्राकृ ३८) ।  
 मलि वि [मलिन्] वारण-कर्ता (भग ६, ३३ टी) ।  
 मलि वि [माल्यिन्] माल्य-युक्त, मालावाला (औप) ।  
 मलि स्त्री [मलि] १ उन्नीसवें जिन-देव का नाम (सम ४३; साया १, ८; मंगल १२; पडि) । २ वृक्ष-विशेष, मोतिया का गाछ (दे २, १८) । ० णाह, ० नाह पुं [नाथ] उन्नीसवें जिन-देव (महा; कुप्र ६३) ।  
 मलि स्त्री [मलि] पुष्प-विशेष (भग ६, ३३ टी) ।  
 मलिअज्जुण पुं [मल्लिकार्जुन] एक राजा का नाम (कुमा) ।  
 मलिआ स्त्री [मल्लिका] १ पुष्प-वृक्ष-विशेष (साया १, ६; कुप्र ४६) । २ पुष्प-विशेष (कुमा) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) ।  
 मलिहाण न [माल्याधान] १ पुष्प-वन्दन-स्थान । २ केश-कलाप (भग ६, ३३ टी—पत्र ४८०) ।  
 मल्ली देखो मलि (साया १, ८; पउम २० ३५; विचार १४८; कुमा) ।

मल्ल शक [दे] मौज मानना, लीला करना ।  
 वक्र. मल्लव (दे ६, ११६ टी; भवि) ।  
 मल्लण न [दे] लीला, मौज (दे ६, ११६) ।  
 मय सक [मापय] मापना, माप करना,  
 नापना । मवंति (सिरि ४२५) । कम,  
 'आज्याई मविजंति' (कम्म ५, ८५ टी) ।  
 कवक. मविज्जमाण (विसे १४००) ।  
 मविय वि [मापित] मापा हुआ (तंडु ३१) ।  
 मथली (मा) ली [मस्य] मछली (पि  
 २३३) ।  
 मस पुं [मश, क] १ शरीर पर का  
 मसअ तिलाकार काला दाग, तिल (पव  
 २५७) । २ मच्छड़, खुद जन्तु-विशेष (गा  
 ५६०; चार १०; वज्जा ४६) ।  
 मसकसार न [मसकसार] इन्द्रों का एक  
 स्वयं श्राभाव्य विमान (देवेन्द्र २६३) ।  
 मसग देखो मसअ (भग; औप; पउम ३३,  
 १०८; जी १८) ।  
 मसण वि [मसुण] १ स्निग्ध, चिकना ।  
 २ लुकुमाल, कोमल, श्रकंश । ३ मन्द,  
 घीमा (हे १, १३०; कुमा) ।  
 मसरक सक [दे] सकुचना, समेटना । संक.  
 'दसवि करंगुलीउ मसरकवि (अप)  
 (भवि) ।  
 मसाण न [मसाण] मसान, मरघट (गा  
 ४०८; प्राप्र; कुमा) ।  
 मसार पुं [दे. मसार] मरणता-संपादक  
 पापाण-विशेष, कत्तीटी का पत्थर (आया १,  
 १—पत्र ६; औप) ।  
 मसारगल्ल पुं [मसारगल्ल] एक रत्न-जाति  
 (आया १, १—पत्र ३१; कप्प; उत ३६,  
 ७६; इक) ।  
 मसि ली [मसि] १ काजल, कज्जल (कप्प) ।  
 २ स्वाही, सियाही (सुर २, ५) ।  
 मसिहार पुं [मसिहार] क्षत्रिय-परिव्राजक  
 विशेष (औप) ।  
 मसिण देखो मसण (हे १, १३०; कुमा;  
 औप; से १, ४५; ५, ६४) ।  
 मसिण वि [दे] रम्य, सुन्दर (दे ६, ११८) ।  
 मसिणिअ वि [मसिणित] १ मृष्ट, शुद्ध  
 किया हुआ, माजित; 'रोसिणिअं मसिणिअं'

(पाप्र) । २ स्निग्ध किया हुआ (से ६,  
 ६) । ३ विलुप्त, विमदित (से १, ५५) ।  
 मसी देखो मसि (उवा) ।  
 मसूर पुं [मसूर, क] १ वायव्य-विशेष,  
 मसूरग मसूरि (ठा ४, ३; सम १४६; पिट  
 मसूरय ६२३) । २ उच्छोर्षक, धाँसीसा  
 (सुर २, ८३; कप्प) । ३ वल्ल या धर्म का  
 वृत्ताकार भासन (पव ८४) ।  
 मसु देखो मंसु (संति १२; पि ३१२) ।  
 मसूरग देखो मसूरग; 'मसूरय य विवुले'  
 (जीवस ५२) ।  
 मह सक [काङ्क्ष] चाहना, वाञ्छना ।  
 महइ (हे ४, १६२; कुमा; सण) ।  
 मह सक [मथ] १ मयना, विलोडन  
 करना । २ मारना । महंज्जा (उवा) ।  
 मह सक [मह] पूजना । महइ (कुमा),  
 महइ (सिरि ५६६) । संक. महिअ (कुमा) ।  
 क. महणिज्ज (उप पृ १२६) ।  
 मह पुं [मह] उत्सव (विपा १, १—पत्र  
 ५; रंभा; पाप्र; सण) ।  
 मह पुं [मख] यज्ञ (चंड; गउड) ।  
 मह वि [महत्] १ बड़ा, बृद्ध । २ विपुल,  
 विस्तीर्ण । ३ उत्तम, श्रेष्ठ; 'एगं महं सत्तुस्सेह'  
 (आया १, १—पत्र १३; काल, जी ७;  
 हे १, ५) । ली. 'इं (उव; महा) । 'एवी  
 ली [देवी] पटरानी (भवि) । 'कंतजस  
 पुं [अन्तयशस्] राजस वंश का एक  
 राजा, एक लंका-मति (पउम ५, २६५) ।  
 'कमलंग न [कमलाङ्ग] संख्या-विशेष,  
 ८४ लाख कमल की संख्या (जो २) ।  
 'कव्व न [काव्य] संग-वद्ध उत्तम काव्य-  
 ग्रंथ (भवि) । 'काल देखो महा-काल  
 (देवेन्द्र २४) । 'गइ पुं [गति] राजस वंश  
 का एक राजा, एक लंका-मति (पउम ५, २६५) ।  
 'गह देखो महा-गह (सम ६३) । 'गघ  
 वि [अर्घ] महा-मूल्य, कीमती (सुर ३,  
 १०३; सुपा ३७) । 'गघविअ वि [अर्घित]  
 १ महंगा, दुर्लभ (से १४, ३७) । २  
 विभूषित; 'विमलंगोवंगणमहगघविया' (सुपा  
 १, ६०) । ३ सम्मानित; 'अच्चियवदियपूइय-  
 सक्कारियपरणमिअो महगघविअो' (उव) ।  
 'गिघम (अप) वि [अर्घित] बहू-मूल्य,

महंगा (भवि) । 'चंद पुं [चन्द्र] १  
 राजकुमार-विशेष (विपा २, ५; ६) । २  
 एक राजा (विपा १, ४) । 'ब वि [अर्च]  
 १ बड़ा ऐश्वर्यवाला । २ बड़ो पूजा—सत्कार-  
 वाला (ठा ३, १—पत्र ११७; भग) ।  
 'ब वि [अर्च्य] अति पूज्य (ठा ३, १,  
 भग) । 'चरिय न [आश्चर्य] बड़ा  
 आश्चर्य (सुर १०, ११८) । 'जक्ख पुं  
 'यइ' नगवान् अजितनाम का शासना-  
 विष्णायक देव (पव २६; संति ७) । 'जाटा  
 ली [ज्वाला] विशादेवी-विशेष (संति ६) ।  
 'ज्जुइय वि [सुतिक] महान् तेजवाला  
 (भग; प्रोप) । 'दिइ ली [अद्वि] महान्  
 वैभव (राय) । 'दिइय, 'इडोअ वि  
 [अद्विक] विपुल वैभववाला (भग; प्रोपना  
 १०) । 'णय पुं [अर्णव] महा-सागर  
 (सुपा ४१७; हे १, २६६) । 'णय ली  
 [अर्णवा] १ बड़ी नदी । २ समुद्र-नामिनी  
 (कस ४, २७ टि; वृह ४) । 'तुडियंग न  
 [तुटिताङ्ग] ८४ लाख तुटित की संख्या  
 (जो २) । 'त्तण न [त्व] बड़ाई, महवा  
 (आ २७) । 'त्तर वि [तर] १ बहुत बड़ा  
 (त्वप्न २८) । २ मुखिया, नायक, प्रधान  
 (कप्प; औप; विपा १, ८) । ३ अन्तःपुर  
 का रक्षक (औप) । ली. 'रिया, 'री (ठा  
 ४, १—पत्र १६८; इक) । 'थ वि [अर्थ]  
 महान् श्रयवाला (आया १, ८; आ २७) ।  
 'थ न [अत्थ] अत्र-विशेष, बड़ा हवियार  
 (पउम ७१, ६७) । 'त्थि पुं [थत्थ] महा-  
 शयता (भवि) । 'दल्लि वि [दल्लि]  
 बड़ा दलवाला (प्रासु १२३) । 'दह पुं  
 [द्रह] बड़ा हृद (आया १, १—पत्र ६४;  
 गा १८६ अ) । 'दि ली [अद्रि] १ बड़ी  
 याचना । २ परिग्रह (परह १, ५—पत्र  
 ६२) । 'दुडुम पुं [द्रम] १ महान् वृद्ध  
 (हे ४, ४४५) । २ वैरोचन इन्द्र के एक  
 पदाति-सैन्य का अविपति (ठा ५, १—पत्र  
 ३०२) । 'द्वि वि [अद्वि] बड़ी अद्विवाला  
 (कुमा) । 'धूम पुं [धूम] बड़ा धुआँ  
 (महा) । 'नव देखो 'णव (आ २८) ।  
 'पाण न [प्राण] ध्यान-विशेष (सिरि १३३०) ।  
 'पुंडरीअ पुं [पुण्डरीक] ग्रह-विशेष

(हे २, १२०) । °पु पुं [°आत्मन्] महान्  
आत्मा; महा-पुल्प (पउम ११८, १२१) ।  
°फल वि [°फल] महान् फलवाला (सुपा  
६२१) । °वाहु पुं [°वाहु] राक्षस वंश का  
एक राजा, एक लंका-पति (पउम ५; २६५) ।

°बोह पुं [°अबोध] महा-सागर,

°इय वृत्तं सोऽं राणा  
निव्वासिया तहा सुगया ।

महवोहे जंतुणं जह  
पुणरवि नागया तत्त्वं  
(सम्मत्त १२०) ।

°वल पुं [°वल] १ एक राज-कुमार  
(विपा २, ७; भग ११, ११; अंत) । २ वि.  
विपुल बलवाला (भग; श्रौप) । देखो महा-  
वल । °वभय वि [°भय] महाभय-जनक  
(पएह १, १) । °वभूय न [°भूत] धृतिवी  
आदि पाँच द्रव्य (सूय २, १, २२) । °मरुय  
पुं [°मरुत] एक महर्षि, अन्तर्कृद् मुनि-विशेष  
(अंत २५) । °मास पुं [°अश्व] महान्  
श्व (श्रौप) । °यर देखो °त्तर (राया १,  
१—पत्र ३७) । °रव पुं [°रव] राक्षस  
वंश का एक राजा, एक लंका-पति (पउम ५,  
२६६) । °रिसि पुं [°ऋषि] महर्षि, महा-  
मुनि (उव; रयाण ३७) । °रिह वि [°अर्ह]   
बड़े के योग्य, बहु-भूल्य, कीमती (विपा १,  
३; श्रौप; पि १४०) । °वाय पुं [°वात]   
महान् पवन (श्रौष ३८७) । °व्यइय वि  
[°व्रतिक] महाव्रतवाला (सुपा ४७४) ।  
°व्यय पुं न [°व्रत] महान् व्रत; 'महव्यया  
पंच हुंति इमे' (पउम ११, २३), 'सेसा  
महव्यया ते उत्तरगुणसंजुयावि न हु सम्मं'  
(सिक्का ४८; भग; उव) । °व्यय पुं  
[°व्यय] विपुल खर्च (उप पृ १०८) ।  
°सलाग वी [°शलाका] पत्य-विशेष, एक  
प्रकार की नाप (जीवस १३६) । °सिव पुं  
[°शिव] एक राजा, पद्म बलदेव और वासुदेव  
का पिता (सम १५२) । °सुक देखो महा-  
सुक (देवेन्द्र १३५) । °सेण पुं [°सेन]   
१ आठवें जिनदेव का पिता (सम १५०) ।  
२ एक राजा (महा) । ३ एक यादव (उप  
६४८ टी) । ४ न. वन-विशेष (वित्ते  
१४०४) । देखो महा-सेण । देखो महा ।

महभर पुं [दे] गहर-पति, निकुञ्ज का मालिक  
(दे ६, १२३) ।

महइं श्र [महाति] १ अति बड़ा । २ अत्यन्त  
विपुल । °जड वि [°जट] अति बड़ी जटा-  
वाला (पउम ५८, १२) । °महाइंदइ पुं  
[°महेन्द्रजित्] इक्ष्वाकु-वंश के एक राजा  
का नाम (पउम ५, ६) । °महापुरिस पुं  
[°महापुरुष] १ सर्वोत्तम पुरुष, सर्व-श्रेष्ठ  
पुरुष । २ जिनदेव, जिन भगवान् (पउम १,  
१८) । °महालय वि [°महत] अत्यन्त  
बड़ा; 'महइमहालयंसि संवारंसि' (उवा; सम  
७२) । वी. °लिया (भग; उवा) ।

महई देखो मह = महत् ।

महंग पुं [दे] उष्ट्र, ऊँट (दे ६, ११७) ।

महंत देखो मह = महत् (आचा; श्रौप; कुमा) ।

महच्च न [साहल्य] १ महत्त्व । २ महत्त्ववाला  
(ठा ३, १—पत्र ११७) ।

महण न [दे] पिता का घर (दे ६, ११४) ।

महण न [मथन] १ विलोडन (सि १, ४६;  
ववा ८) । २ घर्षण (कुप्र १४८) । ३ वि.  
मारनेवाला; 'वरितनागदम्पमहणा' (पएह १,  
४) । ४ विनाश करनेवाला; 'नाणं च  
चरणं च भवमहणं' (संघोष ३५; सुर ७,  
२२५) । वी. °णी (श्रा ४६) ।

महण पुं [महन] राक्षस वंश का एक राजा,  
एक लंका-पति (पउम ५, २६२) ।

महणिज्ज देखो मह = महत् ।

महति° देखो महइं (ठा ३, ४; राया १,  
१; श्रौप) ।

महती वी [महती] वीणा-विशेष, सौ तांत-  
वाली वीणा (राय ४६) ।

महत्थार न [दे] १ भाएड, भाजन । २  
भोजन (दे ६, १२५) ।

महत्पुर पुं [दे] माहात्म्य, प्रभाव; 'तुह  
मुहचंदपहाए फरिसाए महत्पुरो एसो' (रंभा  
४३) ।

महमह देखो मधमघ । महमहइ (हे ४, ७८;  
पड; गा ४६७), महमहइ (उव) । वक्र.  
महमहंत (काप्र ६१७) । संक्र. महमहिअ  
(कुमा) ।

महमहिअ वि [प्रस्त] १ फैला हुआ (हे १,  
१४६; वज्जा १५०) । २ सुरभित (रंभा) ।

महम्मह देखो महमह; 'जिअलोअसिरी महम्म-  
हइ' (गा ६०४) ।

महया° देखो महा°; 'महयाहिमवंतमहंतमलय-  
मंदरहिदसारे' (राया १, १ टी—पत्र ६,  
श्रौप; विपा १, १; भग) ।

महर वि [दे] असमय, अशक्त (दे ६,  
११३) ।

महलयपक्ख देखो महालयक्ख (पड—पृष्ठ  
१७६) ।

महल्ल वि [दे. महत्] १ बृद्ध, बड़ा (दे  
६, १४३; उवा; गउड; सुर १, ५४; पंचा  
५, १६; संघोष ४७; श्रौष १३६; प्रासू  
१४६; जय १२; सुपा ११७) । २ प्रयुज;  
विशाल, विस्तीर्ण (दे ६, १४३; प्रवि १०;  
स ६६२; भवि) । वी. °लिया (श्रौप; सुपा  
११६; ५८७) ।

महल्ल वि [दे] १ मुखर, वाचाट, वकवादी  
(दे ६, १४३; पड) । २ पुं. जलधि,  
समुद्र (दे ६, १४३) । ३ समूह, निवह (दे  
६, १४३; सुर १, ५४) ।

महल्लिर देखो महल्ल; 'हरिनहकडिएमहल्लिर-  
पयनहरपरंपराए विकरालो' (सुपा ११) ।

महव देखो मघव (कुमा; भवि) ।

महा वी [मघा] नक्षत्र-विशेष (सम १२;  
सुज्ज १०, ५; इक) ।

महा° देखो मह = महत् (उवा) । °अडड न  
[°अटट] संख्या-विशेष, ८४ लाख महाअट-  
टांग की संख्या (जो २) । °अडडंग न

[°अटटाङ्ग] संख्या-विशेष, ८४ लाख अटट  
(जो २) । °आल देखो °काल (नाट—चैत  
८२) । °ऊह न [°ऊह] संख्या-विशेष,  
८४ लाख महाऊहंग की संख्या (जो २) ।

°कइ पुं [°कवि] श्रेष्ठ कवि, समय कवि  
(गउड; वेइय ८४३; रंभा) । °कंदिय पुं  
[°कन्दित] व्यन्तर देवों की एक जाति  
(पएह १, ४; श्रौप; इक) । °कच्छ पुं  
[°कच्छ] १ महाविदेह वर्ष का एक विजय-  
क्षेत्र—प्रान्त (ठा २, ३; इक) । २ देव-  
विशेष (जं ४) । °कच्छा वी [°कच्छा]   
अतिक्रय नामक इन्द्र की एक अश्व-महिपी  
(ठा ४, १—पत्र २०४; राया २; इक) ।

°कणह पुं [°कण्ण] राजा श्रेणिक का एक



पुत्र (निर १, १) । कण्हा स्त्री [कृष्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अंत २५) । कल्प पुं [कल्प] १ जैन ग्रन्थ-विशेष (एरि) । २ काल का एक परिमाण (भग १५) । कमल न [कमल] संख्या-विशेष, चौरासी लाख महाकमलांग की संख्या (जो २) । कव्य देखो मह-कव्य (सम्मत्त १४६) । काय पुं [काय] १ महोरग देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३; इक) । २ वि. महान् शरीरवाला (उवा) । काल पुं [काल] १ महाग्रह-विशेष, एक ग्रह-देवता (सुज्ज २०; ठा २, ३) । २ दक्षिण लवण-समुद्र के पाताल-कलश का अविष्ठायक देव (ठा ४, २—पत्र २२६) । ३ एक इन्द्र, पिशाच-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ४ परमाध्यात्मिक देवों की एक जाति (सम २८) । ५ वायु-कुमार देवों का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) । ६ वेलम्ब इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) । ७ नव निधियों में एक निधि, जो धातुओं की पूति करता है (उप ६८६ टी; ठा ६—पत्र ४४६) । ८ सातवीं नरक-भूमि का एक नरकावास (ठा ५, ३—पत्र ३४१; सम ५८) । ९ पिशाच देवों की एक जाति (राज) । १० उज्जयिनी नगरी का एक प्राचीन जैन मन्दिर (कुप्र १७४) । ११ शिव, महादेव (आव ६) । १२ उज्जयिनी का एक रमशान (अंत) । १३ राजा श्रेणिक का एक पुत्र (निर १, १) । १४ न. एक देव-विमान (सम ३५) । काली स्त्री [काली] १ एक विद्या-देवी (संति ५) । २ भगवान् सुमतिनाथ की शासन-देवी (संति ६) । ३ राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अंत २५) । किण्हा स्त्री [कृष्णा] एक महा-नदी (ठा ५; ३—पत्र ३५१) । कुमुद, कुमुय न [कुमुद] १ एक देव-विमान (सम ३३) । २ संख्या-विशेष, चौरासी लाख महाकुमुदंग की संख्या (जो २) । कुमुयअंग न [कुमुदाङ्ग] संख्या, कुमुद को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लव्व हो वह (जो २) । कर्म पुं [कर्म]—कर्मवितार (गडड) ।

कुल न [कुल] १ श्रेष्ठ कुल (निव्व ८) । २ वि. प्रशस्त कुल में उत्पन्न; निक्खंता जे महाकुला' (सुप्र १, ८, २४) । गंगा स्त्री [गङ्गा] परिमाण-विशेष (भग १५) । गह पुं [ग्रह] १ सूर्य आदि ज्योतिष्क (सार्ध ८७) । गह वि [आग्रह] आग्रही, हठी (सार्ध ८७) । गिरि पुं [गिरि] १ एक जैन महापि (उव; कप्प) । २ बड़ा पर्वत (गडड) । गोव पुं [गोप] १ महान् रत्नक । २ जिन भगवान् (उवा; वित्ते २६५६) । घोस पुं [घोष] १ ऐरवत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (सम १५४) । २ एक इन्द्र, स्तनित कुमार देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ३ एक कुलकर पुरुष (सम १५०) । ४ परमाध्यात्मिक देवों की एक जाति (सम २६) । ५ न. देवविमान-विशेष (सम १२; १७) । चंद्र पुं [चन्द्र] ऐरवत वर्ष के एक भावी तीर्थंकर (सम १५४) । जणिअ पुं [जनिक] श्रेष्ठी, सार्धवाह आदि नगर के गण्य-मान्य लोग (कुमा) । जलहि पुं [जलधि] महा-सागर (सुपा ४७४) । जस पुं [यशस्] १ भरत चक्रवर्ती का एक पौत्र (ठा ८—पत्र ४२६) । २ ऐरवत क्षेत्र के चतुर्थ भावी तीर्थंकर-देव (सम १५४) । ३ वि. महान् यशस्वी (उत्त १२, २३) । जाइ स्त्री [जाति] गुल्म-विशेष (पण १) । जाण न [यान] १ बड़ा यान—वाहन । २ चारित्र, संयम (आचा) । ३ एक विद्याघर-नगर का नाम (इक) । ४ पुं. मोक्ष, मुक्ति (आचा) । जुद्ध न [युद्ध] बड़ी लड़ाई (जीव ३) । जुम्म पुं न [युग्म] महान् राशि (भग ३५) । ण देखो चण; 'गामदुआरम्भासे अगडसमीवे महाणमण्णे वा' (शोष ६६) । णई स्त्री [नदी] बड़ी नदी (गडड; पउम ४०. १३) । णदियावत्त पुं [नन्दावत्त] १ घोष नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) । २ न. एक देवविमान (सम ३२) । णगर देखो नगर (राज) । णलिण देखो नलिण (राज) । णील न [नील] १ रत्न-विशेष । २ वि. अति नील वर्णवाला (जीव ३; श्रौप) । णीला देखो

नीला (राज) । णुभाअ, णुभाग वि [अनुभाग] महानुभाव, महाशय (नाट—मालती ३६; गच्छ १, ४; भग; सिरि १६) । णुभाव वि [अनुभाव] वही अर्थ (सुर २, ३५; द्र ६६) । तमपहा स्त्री [तमः-प्रभा] सप्तम नरक-शुवित्री (पव १७२) । तमा स्त्री [तमा] वही (वेइय ७५६) । तीरा स्त्री [तीरा] नदी-विशेष (ठा ५, ३—पत्र ३५१) । तुडिय न [तुडित] महावृष्टिांग की चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लव्व हो वह, संख्या-विशेष (जो २) । दामट्टि पुं [दामास्थि] ईशानेन्द्र के वृषभ-सैन्य का अविपति (इक) । दामड्डि पुं [दामट्टि] वही अर्थ (ठा ५, १—पत्र ३०३) । दुम देखो मह-दुम (इक) । २ न. एक देव-विमान (सम ३५) । दुमसेण पुं [दुमसेन] राजा श्रेणिक का एक पुत्र जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (अनु २) । देव पुं [देव] १ श्रेष्ठ देव, जिन-देव (पउम १०६, १२) । २ शिव, गौरी-पति (पउम १०६, १२; सम्मत्त ७६) । देवी स्त्री [देवी] पटरानी (कप्प) । धण पुं [धन] एक वणिक् (पउम ५५, ३८) । धणु पुं [धनुप्] बलदेव का एक पुत्र (निर १, ५) । नई स्त्री [नदी] बड़ी नदी (सम २७; कस) । नदिआवत्त देखो णदियावत्त (इक) । नगर न [नगर] बड़ा शहर (पण २, ४) । नय पुं [नद] ब्रह्मपुत्रा आदि बड़ी नदी (आवम) । नलिण न [नलिन] १ संख्या-विशेष, महानलिनांग को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लव्व हो वह (जो २) । २ एक देव-विमान (सम ३३) । नलिणंग न [नलिनाङ्ग] संख्या-विशेष, नलिन को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लव्व हो वह (जो २) । निज्जामय पुं [निर्यामक] श्रेष्ठ कर्णधार (उवा) । निहा स्त्री [निद्रा] मृत्यु, मरण (पउम ६, १६८) । निनाद, निनाय वि [निनाद] प्रख्यात, प्रसिद्ध (शोष ८६; ८६ टी) । निसीह न [निशीथ] एक जैन-आगम-ग्रन्थ (गच्छ ३, २६) । नीला स्त्री [नीला] एक महानदी

(ठा ५, ३—पत्र ३५१) । १ पउम पुं [°पउम] १ भरतक्षेत्र का भावी प्रथम तीर्थंकर (सम १५३) । २ पुंडरीकिणी नगरी का एक राजा और पीछे से राजपि (शाया १, १६—पत्र २४३) । ३ भारतवर्ष में उत्पन्न नववाँ चक्रवर्ती राजा (सम १५२; पउम २०, १४३) । ४ भरतक्षेत्र का भावी नववाँ चक्रवर्ती राजा (सम १५४) । ५ एक राजा (ठा ६) । ६ एक निधि (ठा ६—पत्र ४४६) । ७ एक ब्रह्म (सम १०४; ठा २, ३—पत्र ७२) । ८ राजा श्रेणिक का एक पौत्र (निर १, १) । ९ देव-विशेष (दीव) । १० वृद्ध-विशेष (ठा २, ३) । ११ न. संख्या-विशेष; महापद्मांग को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लव्व हो वह (जो २) । १२ एक देव-विमान (सम ३३) । १३ पउमअंग न [°पउमाङ्ग] संख्या-विशेष, पद्म को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लव्व हो वह (जो २) । १४ पउमा स्त्री [°पउमा] राजा श्रेणिक की पत्नी पुत्र-वधू (निर १, १) । १५ पंडिय वि [°पण्डित] श्रेष्ठ विद्वान् (रंभा) । १६ पट्टण न [°पत्तन] बड़ा शहर (उवा) । १७ पण्ण, पन्न वि [°पन्न] श्रेष्ठ बुद्धिवाला (उप ७७३; पि २७६) । १८ प्रभ न [°प्रभ] एक देव-विमान (सम १३) । १९ प्रभा स्त्री [°प्रभा] एक राज्ञी (उप १०३१ टी) । २० प्रह पुं [°प्रह] महाविदेह वर्ष का एक विजय—प्रान्त (ठा २, ३) । २१ परिणगा, परिशा स्त्री [°परिशा] आचारंग सूत्र के प्रथम श्रुतस्फुट का सातवाँ अध्येयन (राज; आक) । २२ पसु पुं [°पशु] मनुष्य (गउड) । २३ प्ह पुं [°पथ] बड़ा रास्ता, राज-मार्ग (भग; परह १, ३; औप) । २४ पाण न [°प्राण] ब्रह्मलोक-स्थित एक देव-विमान (उत्त १८, २८) । २५ पायाल पुं [°पाताल] बड़ा पाताल-कलश (ठा ४, २—पत्र २२६; सम ७४) । २६ पालि स्त्री [°पालि] १ बड़ा पत्न्य । २ सागरोपम-परिमित भव-स्थिति—आयु, अहमासि महापाणे जुडर्म वरिससओवमे । जा ता पालिनहापाली दिव्वा वरिससओवमा (उत्त १८, २८) ।

२७ पिड पुं [°पिट] पिता का बड़ा भाई (विपा १, ३—पत्र ४०) । २८ पीठ पुं [°पीठ] एक जैन महपि (सहि ८१ टी) । २९ पुंख न [°पुंख] एक देव-विमान (सम २२) । ३० पुंड न [°पुण्ड] एक देव-विमान (सम २२) । ३१ पुंडरीय न [°पुण्डरीक] १ विशाल खेत कमल (राय) । २ पुं. ग्रह-विशेष (सम १०४) । ३ देव-विशेष । ४ देखो पुंडरीअ (राज) । ५ पुर न [°पुर] १ एक विद्यावर-नगर (इक) । २ नगर-विशेष (विपा २, ७) । ३ पुरा स्त्री [°पुरी] महापद्म-विजय की राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०) । ४ पुरिस पुं [°पुरिष] १ श्रेष्ठ पुरुष (परह २, ४) । २ किपुरुष-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ५ पुरी देखो पुरा (इक) । ६ पौंडरीअ न [°पुण्डरीक] एक देव-विमान (स ३३) । ७ देखो पुंडरीय (ठा २, ३—पत्र ७२) । ८ फल देखो मह-फल (उवा) । ९ फलिह न [°रफटिक] शिखरी पर्वत का एक उत्तर-दिशा-स्थित कूट (राज) । १० वल वि [°वल] १ महान् बलवाला (भग) । २ पुं. ऐरखत क्षेत्र का एक भावी तीर्थंकर (सम १५४) । ३ चक्रवर्ती भरत के वंश में उत्पन्न एक राजा (पउम ५, ४; ठा ८—पत्र ४२६) । ४ सोमवंशीय एक नर-पति (पउम ५, १०) । ५ पांचवें बलदेव का पूर्वजन्मीय नाम (पउम २०, १६०) । ६ भारतवर्ष का भावी छठवाँ वासुदेव (सम १५४) । ७ वाहु पुं [°वाहु] १ भारत-वर्ष का भावी चतुर्थ वासुदेव (सम १५४) । २ रावण का एक सुभट (पउम ५६, ३०) । ३ अरर विदेह-वर्ष में उत्पन्न एक वासुदेव (आव ४) । ४ भद्र न [°भद्र] तप-विशेष (पव २७१) । ५ भद्रप-डिमा स्त्री [°भद्रप्रतिमा] नीचे देखो (औप) । ६ भद्रा स्त्री [°भद्रा] व्रत-विशेष, कायोत्सर्ग-व्यान का एक व्रत (ठा २, ३—पत्र ६४) । ७ भय देखो मह-अभय (आचा) । ८ भाअ, भाग वि [°भाग] महानुभाव, महाशय (अभि १७४; महा; सुपा १६८; उप पृ ३) । ९ भीम पुं [°भीम] १ राक्षसों का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । २ भारतवर्ष का भावी आठवाँ प्रतिवासुदेव

(सम १५४) । ३ वि. बड़ा भयानक (दंस ४) । १० भीमसेण पुं [°भीमसेन] एक कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०) । ११ भुअ पुं [°भुज] देव-विशेष (दीव) । १२ भुअंग पुं [°भुजङ्ग] शेष नाम (सि ७, ५६) । १३ भोया स्त्री [°भोगा] एक महा-नदी (ठा ५, ३—पत्र ३५१) । १४ भउंद पुं [°मुकुन्द] वाद्य-विशेष (भग) । १५ मंति पुं [°मन्त्रिन्] १ सर्वोच्च अमात्य, प्रधान मन्त्री (औप; सुपा २२३; शाया १, १) । २ हस्ति-सैन्य का अध्येय (शाया १, १—पत्र १६) । ३ मंस न [°मांस] मनुष्य का मांस (कप्पू) । ४ मच्च पुं [°अमात्य] प्रधान मन्त्री (कुमा) । ५ मत्त पुं [°मात्र] हस्तिपक, हाथी का महाव्रत; 'ततो नरसिहनिवस्स कुंजरा सिंहभयविहुरहियया । अरवणियमहामत्ता मत्तावि पलाइया म्भित्ति' (कुप्र ३६४) ।

६ मरुया स्त्री [°मरुता] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अंत) । ७ मह पुं [°मह] महो-त्सव (आव ४) । ८ महंत वि [°महत्] अति बड़ा (सुपा ५६४; स ६६३) । ९ माई (अप) स्त्री [°माया] छन्द-विशेष (पिग) । १० माउया स्त्री [°मातृका] माता की बड़ी बहन (विपा १, ३—पत्र ४०) । ११ माडर पुं [°माठर] ईशानेन्द्र के स्व-सैन्य का अविपति (ठा ५, १—पत्र ३०३; इक) । १२ मानसिआ स्त्री [°मानसिका] एक विद्या-देवी (संति ६) । १३ माहण पुं [°ब्राह्मण] श्रेष्ठ ब्राह्मण (उवा) । १४ मुणि पुं [°मुनि] श्रेष्ठ साधु (कुमा) । १५ मेह पुं [°मेघ] बड़ा मेघ (शाया १, १—पत्र ४; ठा ४, ४) । १६ मेह वि [°मेघ] बुद्धिमान् (उप १४२ टी) । १७ मोक्ख वि [°मूर्ख] बड़ा बेवकूफ (उप १०३१ टी) । १८ यण पुं [°जन] श्रेष्ठ लोग (सुपा २६१) । १९ यस देखो जस (औप; कप्प) । २० रक्खस पुं [°राक्षस] लंका नगरी का एक राजा जो धनवाहन का पुत्र था (पउम ५, १३६) । २१ र्ह पुं [°रथ] १ बड़ा रथ (परह २, ४—पत्र १३०) । २ वि. बड़ा रथवाला । ३ बड़ा योद्धा, दस

हजार योद्धाओं के साथ अकेला जूझनेवाला (सूत्र १, ३, १, १; गउड) । °रहि वि [°रथिन्] देखो पूर्व का २रा और ३रा अर्थ (उप ७२८ टी) । °राय पुं [°राज] १ बड़ा राजा, राजाविराज (उप ७६८ टी; रंभा; महा) । २ सामानिक देव, इन्द्र-समान ऋद्धिवाला देव (सुर १५, ६) । ३ लोकपाल देव (सम ८६) । °रिद्ध पुं [°रिष्ट] वलि नामक इन्द्र का एक सेनापति (इक) । °रिसि पुं [°ऋषि] बड़ा मुनि, श्रेष्ठ साधु (उव) । °रिह, °रुह देखो मह-रिह (पि १४०; अग्नि १८७) । °रोरु पुं [°रोरु] अप्रतिष्ठान नरकेन्द्रक की उत्तर दिशा में स्थित एक नरकावास (देवेन्द्र २४) । °रोरुअ पुं [°रोरुक, °रोरव] सातवाँ नरक-भूमि का एक नरकावास —नरक-स्थान (सम ५८, ठा ५, ३—पत्र ३४१; इक) । °रोहिणी स्त्री [°रोहिणी] एक महा-विद्या (राज) । °लंजर पुं [°अलंजर] बड़ा जल-कुम्भ (ठा ४, २—पत्र २२६) । °लच्छी स्त्री [°लक्ष्मी] १ एक श्रेष्ठ-भार्या (उप ७२८ टी) । २ छद्म-विशेष (पिंग) । ३ श्रेष्ठ लक्ष्मी । ४ लक्ष्मी-विशेष (नाट) । °लयंग न [°लताङ्ग] संख्या-विशेष, लता नामक संख्या को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह (इक; जो २) । °लया स्त्री [°लता] संख्या-विशेष, महालतांग को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह (जो २) । °लोहिअकल पुं [°लोहिताक्ष] बलीन्द्र के महिप-सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२; इक) । °वक्क न [°वाक्य] परस्पर-संबद्ध अर्थ वाले वाक्यों का समुदाय (उप ८५६) । °वच्छ पुं [°वत्स] विजय-विशेष, विदेह वर्ष का एक प्रान्त (ठा २, ३; इक) । °वच्छा स्त्री [°वत्सा] वही (इक) । °वण न [°वन] मधुरा के निकट का एक वन (ती ७) । °वण पुंन [°आपण] बड़ी ढूँकान (भवि) । °वप्प पुं [°वप्र] विजयक्षेत्र-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०; इक) । °वयं देखो मह-वयं (सुपा ६५०) । °वराह पुं [°वराह] १ विष्णु का एक अवतार (गउड) । २ बड़ा सूअर (सूत्र १; ७, २५) । °वह

देखो °पह (से १, ५८) । °वाउ पुं [°वायु] ईशानेन्द्र के अश्व-सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०३; इक) । °वाउ पुं [°वाट] बड़ा बाड़ा, महान् गोष्ठ; 'निव्वाणमहावाउ' (उवा) । °विगइ स्त्री [°विकृति] अति विकार-जनक वे वस्तु—मधु, मांस, मद्य और मात्स्य (ठा ४, १—पत्र २०४; अंत) । °विजय वि [°विजय] बड़ा विजयवाला; 'महाविजयपुष्पुत्तरपवरपुंडरीयाओ महाविमाणाओ' (कप्प) । °विदेह पुं [°विदेह] वर्ष-विशेष, क्षेत्र-विशेष (सम १२; उवा; श्रौप; अंत) । °विमाण न [°विमान] श्रेष्ठ देव-गृह (उवा) । °विल न [°विल] कन्दरा आदि बड़ा विवर (कुमा) । °वीर पुं [°वीर] १ वर्तमान समय के अन्तिम तीर्थंकर (सम १; उवा; विपा १, १) । २ वि. महान् पराक्रमी (किरात १६) । °वीरिअ पुं [°वीर्य] इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम (पउम ५, ५) । °वीहि, °वीही स्त्री [°वीथि, °थी] बड़ा बाजार (पउम ६६, ३४) । २ श्रेष्ठ मार्ग (आन्वा) । °वेग पुं [°वेग] एक देव-जाति, भूतों की एक प्रकार की जाति (राज; इक) । °वेजयंती स्त्री [°वेजयन्ती] बड़ी पताका, विजय-पताका, (कप्प) । °सई स्त्री [°सती] उत्तम पतिव्रता स्त्री (उप ७२८ टी; पडि) । °सलणि स्त्री [°शकुनि] एक विद्यावर-स्त्री (पएह १, ४—पत्र ७२) । °सडिह वि [°अडिह] बड़ी श्रद्धावाला (आचा; पि ३३३) । °सत्त वि [°सत्त्व] पराक्रमी (द्र ११; महा) । °समुद पुं [°समुद्र] महासागर (उवा) । सयग, °सयय पुं [°शतक] भगवान् महावीर का एक उपासक (उवा) । °सामाण न [°सामान] एक देव-विमान (सम ३३) । °साल पुं [°शाल] एक युवराज (पडि) । °सिलाकंटय पुं [°शिलाकण्टक] राजा कृष्णिक और चेटकराज की लड़ाई (भग ७, ६—पत्र ३१५) । °सीह पुं [°सिंह] एक राजा, पशु बलदेव और वामुदेव का पिता (ठा ६—पत्र ४४७) । °सीहणिकीलिय, °सीहणिकीलिय न [°सिंहणिकीडित] तप-विशेष (राज; पव २७१—गाथा १५२२) । °सीहसेण पुं [°सिंहसेन]

भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर प्रवृत्त देवलोक में उत्पन्न राजा श्रेणिक का एक पुत्र (अनु २) । °सुक पुं [°शुक] १ एक देवलोक, सातवाँ देवलोक (सम ३३; विपा २, १) । २ सातवें देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ३ न. एक देव-विमान (सम ३३) । °सुमिण पुं [°स्वप्न] उत्तम फल का एक मूकक स्वप्न (गाथा १, १—पत्र १३; पि ४४७) । °सुर पुं [°असुर] १ बड़ा दानव । २ दानवों का राजा हिरण्यकशिपु (से १, २; गउड) । °सुव्वय, °सुव्वया स्त्री [°सुव्वता] भगवान् नेमिनाथ की मुख्य श्राविका (कप्प; आवम) । °सूला स्त्री [°शूला] फाँसी (था २७) । °सेअ पुं [°श्वेत] एक इन्द्र, कूप्पाएड नामक वान-व्यन्तर देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (इक; ठा २, ३—पत्र ८५) । °सेण पुं [°सेन] १ ऐरवत क्षेत्र के एक भावी जिन-देव (सम १५४) । २ राजा श्रेणिक का एक पुत्र जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (अनु २) । ३ एक राजा (विपा १, ६—पत्र ८८) । ४ एक यादव (गाथा १, ५) । ५ न. एक वन (विसे २०८६) । देखो मह-सेण । °सेणकण्ह पुं [°सेनकण्ण] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (पि ५२) । °सेणकण्हा स्त्री [°सेनकण्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अंत २५) । °सेल पुं [°शैल] १ बड़ा पर्वत (गाथा १, १) । २ न. नगर-विशेष (पउम ५५, ५३) । °सोआम, °सोदाम पुं [°सौदाम] वैरोचन बलीन्द्र के अश्व-सैन्य का अधिपति (ठा ५, १; इक) । °हरि पुं [°हरि] एक नर-पति, दसवें चक्रवर्ती का पिता (सम १५२) । °हिमव, °हिमवंत पुं [°हिमवत्] १ पर्वत-विशेष (पउम १०२, १०५; ठा २, २; महा) । २ देव-विशेष (जं ४) । महाअत्त वि [दे] आद्य, श्रीमन्त (दे ६, ११६) । महाइय पुं [दे] महात्मा (भवि) । महाणड पुं [दे. महानट] छद्म, महादेव (दे ६, ४, १२१) । महाणस न [महानस] रसोई-घर, पाक-स्थान (गाथा १; ८; गा १३; उप २५६ टी) ।

महाणसि वि [महानसिन्] रसोई वनाले-  
वाला, रसोइया । ब्री. °णी (गाया १, ७—  
पत्र ११७) ।

महाणसिय वि [महानसिक] ऊपर देखो  
(विपा १, ८) ।

महाविल न [दे. महाविल] व्योम, आकाश  
(दे ६, १२१) ।

महामंति पुं [महामन्त्रिन्] महावत, हस्ति-  
पक (राय १२१ टी) ।

महारिय (अप) वि [मदीय] भेरा (जय  
३०) ।

महाल पुं [दे] जार, उपपति (दे ६,  
११६) ।

महालक्ख वि [दे] तरुण, जवान (दे ६,  
१२१) ।

महालय देखो मह = महत् (गाया १, ८; उवा;  
श्रौप), 'मा कासि कम्माइं महालयाइं' (उत्त  
१३, २६) । ब्री. °लिया (श्रौप) ।

महालय पुंन [महालय] १ उत्सवों का स्थान  
(सम ७२) । २ बड़ा शालय । ३ वि-  
वृहत्काय, बड़ा शरीरवाला (सूत्र २, ५, ६) ।

महालक्ख पुं [दे. महालयपक्ष] श्राद्ध-पक्ष,  
श्राद्धिन (गुजराती भाद्रपद) मास का कृष्ण  
पक्ष (दे ६, १२७) ।

महावल्ली ब्री [दे] नलिनी, कमलिनी (दे ६,  
१२२) ।

महाविजय पुं [महाविजय] एक देवविमान  
(आचा २, १५, २) ।

महासउण पुं [दे] उल्लू, धुक-पक्षी (दे ६,  
१२७) ।

महासदा ब्री [दे] शिवा, श्रृंगाली (दे ६,  
१२०; पात्र) ।

महासेल वि [माहाशैल] महाशैल नगर से  
संबन्ध रखनेवाला, महाशैल का (पउम ५५,  
५३) ।

महि देखो मही (कुमा) । °अल न [°तल]  
भू-पीठ, भूमि-भूष (कुमा; गउड; प्रासू ४५) ।  
°गोयर पुं [°गोचर] मनुष्य (भवि; सण) ।  
°पट्ट न [°पृष्ठ] भूमि-तल (पड्) । °पाल पुं  
[°पाल] राजा (उव) । °मंडल न [°मण्डल]  
भू-मण्डल (भवि; हे ४, ३७२) । °रमण पुं  
[°रमण] राजा (आ २७) । °वइ पुं

[°पति] राजा (गाया १, १ टी; श्रौप) ।  
°वट्ट देखो °पट्ट (हे १, १२६; कुमा) ।  
°वट्टह पुं [°वल्लभ] राजा (गु १०) । °वाल  
पुं [°पाल] १ राजा; नरपति (हि १,  
२२६) । २ व्यक्ति वाचक नाम (भवि) ।  
°वेढ पुं [°वेष्ट, °पीठ] मही-तल, भू-तल  
(से १, ४; ४६) । °सामि पुं [°स्वामिन्]  
राजा (कुमा) । °हर पुं [°धर] १ पर्वत  
(पात्र; से ३, ३८; ४, १७; कुप्र-११७) ।  
२ राजा (कुप्र ११७) ।

महिअ वि [मथित] विलोडित (से २, १८;  
पात्र) ।

महिअ वि [महित] १ पूजित, सत्कृत (से  
१२, ४७; उवा; श्रौप) । २ न. एक देव-  
विमान (सम ४१) । ३ पूजा, सत्कार (गाया  
१, १) ।

महिअ वि [महीयस्] बड़ा, गुरु; 'शत्र-  
निग्रोओ महिओ को याम गग्रागमिह करेइ'  
(मुद्रा १८७) ।

महिअद्दुअ न [दे] धी का किट्ट, घृत-मल  
(राज) ।

महिआ ब्री [महिका] १ सूक्ष्म वर्षा, सूक्ष्म  
जल-नुपार (पण्य १; जी ५) । २ घूमिका,  
धुंध, कुहरा (श्रौष ३०; पात्र) । ३ मेघ-  
समूह; 'षणनिवहो कालिआ महिया' (पात्र) ।  
देखो मिहिया ।

महिंद पुं [महेन्द्र] १ बड़ा इन्द्र, देवाधीश  
(श्रौप; कप्प; गाया १, १ टी—पत्र ६) ।  
२ पर्वत-विशेष (से ६, ५६) । ३ अति महान्,  
सूत्र बड़ा (ठा ४, २—पत्र २३०) । ४ एक  
राजा (पउम ५०, २३) । ५ ऐश्वर्य वर्ष का  
भावी १५ वां तीर्थंकर (पव ७) । ६ पुंन.  
एक देव-विमान (सम २२; देवेन्द्र १४१) ।  
°कंत न [°कान्त] एक देव-विमान (सम  
२७) । °केउ पुं [°केतु] हनुमान के मातामह  
का नाम (पउम ५०, १६) । °ऊमय पुं  
[°ध्वज] १ बड़ा ध्वज । २ इन्द्र के ध्वज  
के समान ध्वज, बड़ा इन्द्र-ध्वज (ठा ४,  
४—पत्र २३०) । ३ न. एक देव-विमान  
(सम २२) । °दुहिया ब्री [°दुहिता]  
अञ्जनासुन्दरी, हनुमान की माता (पउम ५०,  
२३) । °विक्रम पुं [°विक्रम] इक्ष्वाकु

वंश का एक राजा (पउम ५, ६) । °सीह  
पुं [°सिंह] १ कुल देश का एक राजा  
(उप ७२८ टी) । २ सनत्कुमार चक्रवर्ती का  
एक मित्र (महा) ।

महिंद वि [माहेन्द्र] १ महेन्द्र-सम्बन्धी ।  
२ उल्पात-विशेष (अणु २१५) ।

महिंदुत्तरवडिसय न [महेन्द्रोत्तरावतंसक]  
एक देव-विमान (सम २७) ।

महिगा देखो महिआ (जीवस ३१) ।  
महिच्छ वि [महेच्छ] महत्वाकांक्षी (सूत्र  
२, २, ६१) ।

महिच्छा ब्री [महेच्छा] महत्वाकांक्षा-  
अपरिमित वाञ्छा (पण्य १, ५) ।

महिट्ट वि [दे] मट्टा से संसृष्ट, तक्र-संस्कारित  
(विपा १, ८—पत्र ८३) ।

महिड्डि वि [महद्धि, °क] बड़ी ऋद्धि-  
महिड्डिय } वाला, महान् वैभववाला (आ  
महिड्डीय } २७; भग; श्रौषमा ६; श्रौप;  
पि ७३) ।

महिम पुंन [महिमन्] १ महत्त्व, माहात्म्य,  
गौरव (हे १, ३५; कुमा; गउड; भवि) । २  
योगी का एक प्रकार का ऐश्वर्य (हे १, ३५) ।

महिला देखो मिहिला (महा; राज) ।

महिला ब्री [महिला] ब्री, नारी (कुमा;  
हे ३, ४१; पात्र) । °धूम पुं [°स्तूप] कूप  
आदि का किनारा (विसे २०६४) ।

महिलिया ब्री [महिलिका, महिला] ऊपर  
देखो (गाया १, २; पउम १४, १४५;  
प्रासू २४) ।

महिलिया ब्री [मिथिलिका, मिथिला]  
देखो मिहिला (कप्प) ।

महिस पुं [महिप] भैंसा (गउड; श्रौप;  
गा ५४८) । °सुर पुं [°सुर] एक  
दानव (स ४३७) ।

महिसंद पुं [दे] वृक्ष-विशेष, शिशु का पेड़  
(दे ६, १२०) ।

महिसिअ वि [महिपिक] भैंसवाला, भैंस  
चरानेवाला (अणु १४४) ।

महिसिअ न [दे] महिपो-समूह (दे ६,  
१२४) ।

महिसी ब्री [महिपी] १ राज-भक्तनी (ठा ४,  
१) । २ भैंस (पात्र; पउम; २६, ४१) ।

महिस्सर पुं [महेश्वर] एक इन्द्र, भूतवादि-  
देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—  
पत्र ८५)। देखो महेसर।

मही स्त्री [मही] ? पृथिवी, भूमि, धरती  
(कुमा, पात्र)। २ एक नदी (ठा ५, २—  
पत्र ३०८)। ३ छन्द-विशेष (पिंग)। °नाह  
पुं [°नाथ] राजा (उप पृ ६१)। °पहु  
पुं [°प्रभु] राजा (उप ७२८ टी)। °पाल  
पुं [°पाल] वही अर्थ (उप १५० टी; उव)।  
°रुह पुं [°रुह] वृक्ष, पेड़ (पात्र; सुर ३,  
११०; १६, २४८)। °वइ पुं [°वति]  
राजा (श्रा २८; उप १४६ टी; सुपा ३८)।  
°वीठ न [°वीठ] भूमि-तल (सुर २, ७४)।  
°स पुं [°श] राजा (श्रा १४)। °सक पुं  
[°शक्र] वही अर्थ (श्रा १४)। देखो  
महिं।

महु पुं [मधु] ? एक दैत्य (से १, १;  
अच्छ ४०)। २ वसन्त ऋतु; 'सुरही महु  
वसंतो' (पात्र; कुमा)। ३ चैत्र मास (सुर  
३, ४०; १६, १०७; पिंग)। ४ पांचवाँ  
प्रति-वासुदेव राजा (पउम ५, १५६)। ५  
एक राजा (श्रु ६१)। ६ मथुरा का एक  
राज-कुमार (पउम १२, २)। ७ चक्रवर्ती  
का एक देव-कृत महल (उत्त १३, १३)।  
८ मयूक का पेड़, महुआ का गाल (कुमा)।  
९ अशोक-वृक्ष (चंड)। १० न. मय, दाह  
(से २, २७)। ११ लौद्र, शहद (कुमा; पत्र  
४; ठा ४, १)। १२ पुष्प-रस। १३ मधुर-  
रस। १४ जल, पानी (प्राप्र; हे ३, २५)।  
१५ छन्द-विशेष (पिंग)। १६ मधुर, मिष्ट  
वस्तु (परह २, १)। °अर पुं स्त्री [°कर]  
भ्रमर, मौंरा (पात्र; स्वप्न ७३; श्रौप;  
कृष्ण; पिंग)। स्त्री. °रिआ, °री (अग्नि  
१६०; नाट—मृच्छ ५७)। °अरवित्ति स्त्री  
[°करवृत्ति] माधुकरि, भिक्षा-वृत्ति (सुपा  
८३)। °अरीगीय न [°करीगीत] नाट्य-  
विवि-विशेष (महा)। °आसव वि [°आश्रव]  
लविवि-विशेषवाला, जिसके प्रभाव से वचन  
मधुर लगे ऐसी लविववाला (परह २, १—  
पत्र १००)। °गुलिया स्त्री [°गुटिका]  
शहद की गोली (ठा ४, २)। °पडल न  
[°पटल] मधुपुडा (दे ३, १२)। °भार

पुं [°भार] छन्द-विशेष (पिंग)। °मखिया,  
°मच्छिआ स्त्री [°मक्षिका] शहद की  
मक्खी; 'ग्रह उद्वियाउ तोमरमुहांउ महविल  
(?मखि)याउ तत्वतो' (धर्मवि १२४;  
गा ६३४)। °मय वि [°मय] मधु से  
भरा हुआ (से १, ३०)। °मह पुं [°मथ]  
विष्णु, वासुदेव, उमेन्द्र (पात्र; से १, १७)।  
२ भ्रमर (से १, १७)। °मह पुं [°मह]  
वसन्त का उत्सव (से १, १७)। °महण  
पुं [°मथन] ? विष्णु (से १, १; वज्जा २४;  
गा ११७; हे ४, ३८४; पि १४३; पिंग)। २  
समुद्र, सागर। ३ सेतु, पुल (से १, १)।  
°मास पुं [°मास] चैत्र मास (भवि)।  
°मित्त पुं न [°मित्र] कामदेव (सुपा  
५२६)। °मेहन न [°मेहन] रोग-विशेष,  
मधु-प्रमेह (आचा १, ६, १, २)। °मेहणि  
वि [°मेहनिन्] मधु-प्रमेह रोगवाला  
(आचा)। °मेहि पुं [°मेहिन्] वही अर्थ  
(आचा)। °राय पुं [°राज] एक राजा  
(रयण ७४)। °लट्टि स्त्री [°यष्टि] ?  
श्रोपधि-विशेष, यष्टिमधु, मुलेठी, जेठी मधु।  
२ इक्षु, ईल (हे १, २४७)। °वक्क पुं [°पर्क] ?  
दधियुक्त मधु, दही और शहद। २ पोड्योप-  
चार-पूजा का छठवाँ उपचार (उत्तर १०३)।  
°वार पुं [°वार] मय, दाह (पात्र)।  
°सिंगी स्त्री [°शृङ्गी] वनस्पति-विशेष  
(परण १—पत्र ३५)। °सूयण पुं  
[°सूदन] विष्णु (गडड; सुपा ७)।

महुअ पुं [मधूक] ? वृक्ष-विशेष, महुआ  
का गाल (गा १०३)। २ न. महुआ का  
फल (प्राप्र; हे १, २२२)।  
महुअ पुं [दे] ? पत्ति-विशेष, श्रौवद पत्नी।  
२ मागव, स्तुति-पाठक (दे ६, १४४)।  
महुण सक [मथ] ? विलोडन करना।  
२ विनाश करना। वृक्ष. 'विमुकट्टट्टहासा  
जलियजलणपिगलकेसा महुणित-जालाकराल-  
पिसाया मुक्का' (महा)।  
महुत्त (अप) देखो मुहुत्त (भवि)।  
महुप्पल न [महोत्पल] कमल, पद्म; 'महुप्पलं  
पंकयं नल्लिणं' (पात्र)।  
महुमुह पुं [दे. मधुमुख] पिशुन, दुर्जन,  
खल (दे ६, १२२)।

महुर पुं [महुर] ? अनायं देश-विशेष। २  
उस देश में रहनेवाली अनायं मनुष्य-जाति  
(परह १, १—पत्र १४)।

महुर वि [मधुर] ? मोठा, मिष्ट (कुमा;  
प्राप्र ३३; गडड; गा ४०१)। २ कोमल  
(भग ६, ३१; श्रौप)। °भासि वि  
[°भापिन्] प्रिय-भाषी (पउम ६, १३३)।  
महुरा स्त्री [मथुरा] भारत की एक प्रसिद्ध  
नगरी, मथुरा (ठा १०; सम १५३; परह  
१, ३; हे २, १५०; कुमा; वज्जा १२२)।  
°मंगु पुं [°मङ्ग] एक प्रसिद्ध जनाचार्य  
(सिक्का ६२)। °हिव पुं [°विप] मथुरा  
का राजा (कुमा)।

महुरालिअ वि [दे] परिचित (दे ६, १२५)।  
महुरिम पुं स्त्री [मधुरिमन्] मधुरता, माधुर्य  
(सुपा २६४; कुप्र ५०)।

महुरेस पुं [मथुरेश] मथुरा का राजा  
(कुमा)।

महुला स्त्री [दे] रोग-विशेष, पाद-गण्ड  
(निच्छ २)।

महुसित्य न [मधुसिक्थ] ? मदन, मोम  
(उप पृ. २०६)। २ पंक-विशेष, स्त्री के पैर  
में लगा हुआ अलता तक लगनेवाला कादा  
(श्रीधमा ३३)। ३ कला-विशेष (स ६०२)।

महुस्सव देखो महुसव (राज)।

महुअ देखो महुअ = मयूक (कुमा; हे १,  
१२२)।

महुसव पुं [महोत्सव] बड़ा उत्सव (सुर ३,  
१०८; नाट—मृच्छ ५४)।

महेद देखो महिंद (से ६, २२)।

महेडु पुं [दे] पंक, कादा (दे ६, ११६)।

महेवभ पुं [महेभ्य] बड़ा शेर (श्रा १६)।

महेभ पुं [महेभ] बड़ा हाथी (कुमा)।

महेला स्त्री [महेला] स्त्री, नारी (हे १,  
१४६; कुमा)।

महेस पुं [महेश] नीचे देखो (वि ६४; भवि)।

महेसर पुं [महेश्वर] ? महादेव, शिव (पउम  
३५, ६४; धर्मवि १२८)। २ जिनदेव,  
अहंन (पउम १०६, १२)। ३ श्रीमन्त,  
श्राव्य (सिदि ४२)। ४ भूतवादि देवों के  
उत्तर दिशा का इन्द्र (इक)। °दत्त पुं  
[°दत्त] एक पुरोहित (विपा १, ५)।

महेसि देखो मह-रिसि (सम १२३; पएह १, १; उप ३५७; ७२८ टी; अमि ११८)।

महोअर पुं [महोअर] १ रावण का एक भाई (सि १२, ५४)। २ वि. बहु-महो (निवृ १)।

महोअहि पुं [महोअधि] महासागर (सि ५, २, महा)। रव पुं [रव] वानर-वंश का एक राजा (पउम ६, ६३)।

महोच्छव देखो महूसव (सुर ६, ११०)।

महोदहि देखो महोअहि (पएह २, ४; उप ७२८ टी)।

महोरग पुं [महोरग] १ व्यन्तर देवों की एक जाति (पएह १, ४—पत्र ६८; इक)। २ बड़ा सर्प। ३ महा-काय सर्प की एक जाति (पएह १, १—पत्र ८)। ४ त्थ न [१] अन्न-विशेष (महा)।

महोरगकंठ पुं [महोरगकण्ठ] रत्न-विशेष (राय ६७)।

महोसव देखो महूसव (नाट—रत्ना २४)।

महोसहि स्त्री [महोअधि] अष्ट औपधि (गउड)।

मा अ [मा] मत, नहीं (चेइय ६८४; प्रासु २१)।

मा स्त्री [मा] १ लक्ष्मी, दौलत (सि ३, १५; सुर १६, ५२)। २ शोभा (सि ३, १५)।

मा } अक [मा] १ समाना, अटना। २  
माअ } सक. माप-करना। ३ निश्चय करना, जानना। माइ, मामइ, माइजा, माएजा (पव ४०; कुमा; प्राक ६६; संवेग १८; औप)। वक्र. मत, माअंत (कुमा; ४, ३०; से २, ६; गा २७८)। कवक्र. मिज्जंत, मिज्जमाण (सि ७, ६६; सम ७६; जीवस १४४)। क. माअव्य; 'वाया सहस-मइया', माइअ (सि ६, ३; महा; कप)। देखो मेअ = मेय।

माअडि पुं [माअडि] इन्द्र का सारथि (सि १५, ५१)।

माअरा देखो माइ = मातृ (कुमा; हे ३, ४३)।

माअलि देखो माअडि (सि १५, ४६)।

माअलिआ स्त्री [दे] मातृष्वसा, माता की बहन (दे ६, १३१)।

माअही स्त्री [मागधी] काव्य-की एक रीति (कप)। देखो मागहिआ।

माआरा } स्त्री [मातृ] १ माँ, जननी (पड; माइ } ठा ४, ३; कुमा; सुपा ३७७)।

२ देवता; देवी (हे १, १३५; ३, ४६; सुख ३, ६)। ३ स्त्री, नारी। ४ माया (पंचा १७, ४८)। ५ भूमि। ६ विभूति। ७ लक्ष्मी। ८ रेवती। ९ आबुकर्णी। १० जटामांसी।

११ इन्द्र-वाहणी, इन्द्रायण (पड; हे १, १३५; ३, ४६)। १२ घर न [गृह] देवी-मन्दिर (सुख ३, ६)। १३ टाण, ठाण न [स्थान] १ माया-स्थान (पंचा १७, ४८; सम ३६)। २ माया, कपट-दोष (पंचा १७, ४८; उवर ८४)। ३ मेह पुं [मेध] यज्ञ-विशेष, जिसमें माता का वध किया जाय वह यज्ञ (पउम ११, ४२)। ४ हर देखो घर (हे १, १३५)। देखो माउ, माया = मातृ।

माइ वि [मायिन्] माया-युक्त, मायावी (भग; कम्म ४, ४०)।

माइ अ [मा] मत, नहीं (प्राक ७८)।

माइ } वि [दे] १ रोमश, रोमवाला, प्रभूत  
माइअ } वालों से युक्त (दे ६, १२८; याया १, १८—पत्र २३७)। २ मयूरित, पुष्प-विशेषवाला (औप; भग; याया १, १ टी—पत्र ५; अंत)।

माइअ वि [मात] समाया हुआ, अटा हुआ (सुख ६, १)।

माइअ वि [मायिक] मायावी (दे ६, १४७; याया १, १४)।

माइअ वि [मात्रिक] मात्रा-युक्त, परिमित (तंडु २०; पन्हे १, ४ पत्र ६८)।

माइअ देखो मा = मा।

माइ देखो माइ = मा (हे २, १६१; कुमा)।

माइगण न [दे] वृत्ताक, भंटा (उप ५६३)।

माइद [दे] देखो मायंद (प्राप्र; स ४१६)।

माइद पुं [मृगेन्द्र] सिंह, केशरी; 'एकसर-पहरदारियमाइदगईदजुडकमाभिडि' (वजा ४२)।

माइदजाल } न [मायेन्द्रजाल] माया-कर्म,  
माइदयाल } वनावटी प्रपंच (सुर २, २२६; स ६६०)।

माइदा स्त्री [दे] आमलकी, आमला का गच्छ (दे ६, १२६)।

माइण्हिआ स्त्री [मृगतृष्णिका] धूप में जल की भ्रान्ति (उप २२० टी; मोह २३)।

माइलि वि [दे] मृदु, कोमल (दे ६, १२६)।

माइल देखो माइ = मायिन् (सूय १, ४, १, १८, आचा; भग; औप ४१३; पउम ३१, ५१; औप; ठा ४, ४)।

माइवाह } पुं स्त्री [दे. मातृवाह] द्वीन्द्रिय  
माइवाह } जन्तु-विशेष, सुद कीट-विशेष (उत्त ३६, १२६, जी १५; पुष्क २६५)। स्त्री. हा (सुख १८, ३५; जी १५)।

माउ देखो माइ = मातृ (भग; सुर १, १७६; औप; प्रामा कुमा; पड; हे १, १३४; १३५)। १ गाम पुं [ग्राम] स्त्री-वर्ग (बृह १)। २ च्छा देखो सिआ (हे २; १४२; गा ६४८)। ३ पिउ पुं [पितृ] माँ-बाप (सुर १, १७६)। ४ मही स्त्री [मही] माँ की माँ, नानी (रभा २०)। ५ सिआ, सी, स्सिआ स्त्री [स्वसृ] माँ की बहन, मौसी (हे २, १४२; कुमा; विपा १, ३; सुर ११, २१६; पि १४८; विपा १, ३—पत्र ४१)।

माउ } वि [मातृ, क] १ प्रमाता,  
माउअ } प्रमाण-कर्ता, सत्य ज्ञानवाला। २ परिमाण-कर्ता, नापनेवाला। ३ पुं. जीव। ४ आकाश; 'माऊ', 'माउप्रो' (पड; हे १, १३१; प्राप्र; प्राक ८; हे १, १३४)।

माउअ वि [मातृक] माता-संबन्धी (हे १, १३१; प्राप्र; प्राक ८; राज)।

माउअ पुंन [मातृक, का] १ अकार आदि छयालीस अक्षर; 'वंभीए एं लित्रीए छयालीस माउयक्करा' (सम ६६; श्राव ५)। २ स्वर। ३ करण (हे १, १३१; प्राप्र; प्राक ८)। नीचे देखो।

माउआ स्त्री [मातृका] १ माता, माँ (याया १, ६—पत्र १५८)। २ ऊपर देखो (सम ६६)। ३ पय पुंन [पद] शास्त्रों के सार-भूत शब्द—उत्पाद; व्यय और औव्य (सम ६६)।

माउआ स्त्री [दे. मातृका] दुर्गा, पावती, उमा (दे ६, १४७)।

माउआ स्त्री [दे] १ सखी, सहेली (दे ६, १४७; पाप्र; याया १, ६—पत्र १५८)। २ ऊपर के होठ पर के बाल, मूँछ; 'रत्तगंड-

मंसुयाहि माज्याहि उवसोहियाई (णया १, ६—पत्र १५८)।

माउआपय न [माउआपय] मूलाकर, 'घ' से 'ह' तक के अक्षर (दसनि १, ८)।

माउक वि [मृदु, °क] कोमल, कुमार (हे १, १२७; २, २६; कुमा)।

माउक न [मृदुत्व] कोमलता (हे १, १२७; २, २; कुमा)।

माउचा वी [दे. माउचाम्] देखो माउ-च्छा (पड्)।

माउचा वी [दे] सखी, सहेली (पड्)।

माउच्छ वि [दे] मृदु, कोमल (दे ६, १२६)।

माउत्त } देखो माउक = मृदुत्व (कुमा; हे  
माउत्तण } २; २; पड्)।

माउल पुं [मातुल] मां का भाई, मामा (सुर ३, ८१; रंभा; महा)।

माउलिअ देखो मउलिअ (से ११, ६१)।

माउलिग देखो माहुलिग (राज)।

माउलिगा } वी [मातुलिङ्गा, °ङ्गी] वीजौरे  
माउलिगी } का गाछ (पण १—पत्र  
३२; पत्र ४२, ६)।

माउलुंग देखो माहुलिग (हे १, २१४; अनु)।

मागदिअ पुं [माकन्दिक] माकन्दिकपुत्र नामक एक जैन मुनि (भग १८—१ टी)।  
°पुत्त पुं [°पुत्र] वही अर्थ (भग १८, ३)।

मागसीसी वी [मार्गशीर्षी] १ अग्रहन मास की पूर्णिमा। २ अग्रहन की अमावास्या (इक)।

मागह } वि [मागध, °क] १ मगध-  
मागहय } देशीय, मगध देश में उत्पन्न, मगध देश का, मगध-संबन्धी (श्रीष ७१३; विसे १४६६; पत्र ६१; णया १, ८; पत्र ६६, ५५)। २ पुं. स्तुति-पाठक, वन्दी, चारण (पात्र; श्रीष)। °भासा वी [°भाषा] देखो मागहिआ का पहला अर्थ (राज)।

मागहिआ वी [मागधिका] १ मगध देश की भाषा, प्राकृत भाषा का एक भेद। २ कला-विशेष (श्रीष)। ३ दृष्ट-विशेष (सुत्र २, ४५; अजि ४)।

माघवई वी [माघवती] सातवीं नरक-भूमि (पत्र १४३; इक; ठा ७—पत्र ३८८)।

माघवा } [माघवा, °वी] ऊपर देखो, 'मघव  
माघवी } ति माघव ति य पुढवीणं नामवेयाई' (जीवस १२; इक)।

माज्जार देखो मज्जार (संक्षि २)।

माडंविअ पुं [माडंम्विक] १ 'मडं' का अविपति (णया १, १; श्रीष; कप्प)। २ प्रत्यन्त—सीमा-प्रान्त का राजा (पणह १, ५—पत्र ६४)।

माडंविअ वि [माडंम्विक] चित्र-मंडप का अर्थ (राय १४१)।

माडिअ न [दे] गृह, घर (दे ६, १२८)।

माडर पुं [माडर] १ सौधमंत्र के रथ-सैन्य का अविपति (ठा ५, १—पत्र ३०३, इक)। २ न. गोत्र-विशेष (कप्प)। ३ शास्त्र-विशेष (एदि)।

माडर पुं वी [माडर] माडर-गोत्र में उत्पन्न (एदि ४६)।

माडरी वी [माडरी] वनस्पति-विशेष (पण १—पत्र ३६)।

माडिअ वि [माडित्त] सत्ताह-युक्त, वर्मित (कुमा)।

माडी वी [माडी] कवच, वर्म; वस्त्र (दे ६, १२८ टी; पणह १, ३—पत्र ४४; पात्र; से १२, ६२)।

माण सक [मान्य] १ सम्मान करना, आदर करना। २ अनुभव करना। माणइ, माणेइ, माणंति, माणेमि (हे १, २२८; महा; कुमा; सिरि ६६)। वक्र. माणंत, माणेमाण (सुर २, १८२; णया १, १—पत्र ३३)। क्वक. माणिजंत (गा ३२०)। हेछ. माणिडं, माणेडं (महा; कुमा)। क. माणणिज्ज, माणणीअं माणेयज्ज (उव; सुर १२, १६५; अग्नि १०७; उप १०३१ टी); 'जया य माणिमो होइ पच्छा होइ अ-माणिमो' (दसत्त १, ५)।

माण पुंन [मान] १ गर्व, अहंकार, अभिमान; 'अड्ढदीकयमारिणमारो' (कुमा); 'पुवं विवुहसमखं गुरुणो एयस्स खंडियं माणं' (सम्मत्त ११६)। २ माप, परिमाण। ३ नापने का साधन, वाट—बटखरा आदि (अणु;

कप्प; जी ३०; आ १४)। ४ प्रमाण, सबूत (विसे ६४६; धम्मसं ५२५)। ५ भावर, सत्कार (णया १, १; कप्प)। ६ पुं. एक श्रेष्ठ-पुत्र (सुपा ५४५)। 'इव, इत्त, इड्ढ वि [°वत्] मान-

वाला (पड्; हे २, १५६; हेका ७३; पि ५६५) वी. °त्ता, °त्ती (कुमा; गउड)। °तुंग पुं [°तुङ्ग] एक प्राचीन जैन कवि (नमि २१)। °वई वी [°वती] १ मानवाली वी (से १०, ६६)। २ रावण की एक पत्नी (पत्र ७४, ११)। °संध न [°संव] एक विद्यावर-नगर (इक)। °वाइ वि [°वादिन्] अहंकारी (प्राचा)।

माण वि [मान] मान-संबन्धी, मान का; 'कोहाए माणाए मायाए' (पडि)।

माण न [दे] परिमाण-विशेष, दस शेर की नाप; गुजराती में 'माणु' (उप १५४)।

माणंसि वि [दे] १ मायावी, कपटी (दे ६, १४०; पड्)। २ वी. चन्द्र-वधु (दे ६, १४७)।

माणंसि देखो मणंसि (काप्र १६६; संक्षि १७; पड्)।

माणण न [मानन] १ आदर, सत्कार (प्राचा)। २ मानना (रयण ८४)। ३ अनुभव। ४ सुख का अनुभव; 'सुइसमाणणे' (अजि ३१)।

माणणा वी [मानना] ऊपर देखो (पणह २, १; रयण ८४)।

माणय देखो माण = (दे) (सुपा ३५८)।

माणव पुं [मानव] १ मनुष्य, मत्स्य (पात्र; सुपा २४३)। २ भगवान् महावीर का एक गण (ठा ६—पत्र ४५१; कप्प)।

माणवग } पुं [मानवक] १ एक निधि,  
माणवय } अन्न-शर्करों की पूर्ति करनेवाला निधि (उप ६८६ टी; ठा ६—पत्र ४४६; इक)। २ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष, एक महाग्रह (ठा २, ३; सुज २०)। ३ सौधमं देवलोक का एक चैत्य-स्तम्भ (सम ६३)।

माणवी वी [मानवी] एक विद्या-देवी (संति ६)।

माणस न [मानस] १ सरोवर-विशेष (पणह १, ४; श्रीष; महा; कुमा)। २ मन, अन्तःकरण (पात्र; कुमा)। ३ वि. मन-संबन्धी,

मन का (सुर ४, ७५) । ४ पुं. भूतानन्द के गन्धर्व-सैन्य का नायक (इक) ।

माणसिअ वि [मानसिक] मन-संबन्धी, मन का (आ २४; श्रौप) ।

माणसिआ स्त्री [मानसिका] एक विद्या-देवी (संति ६) ।

माणि वि [मानिन्] १ मान-युक्त, मानवाला (उज; कुप्र २७६; कम्म ४, ४०) । स्त्री. 'णिणी (कुमा) । २ पुं. रावण का एक सुमट (पउम ५६ २) । ३ पर्वत-विशेष । ४ कूट-विशेष (राज; इक) ।

माणिअ वि [दे. मानित] अनुभूत (दे ६, १३०; पात्र) ।

माणिअ वि [मानित] सङ्कत (गउड) ।

माणिक न [माणिक्य] रत्न-विशेष, माणिक (सुपा २१७; वजा २०; कप्प) ।

माणिण देखो माणि (पउम ७३, २७) ।

माणिभद्र पुं [माणिभद्र] १ यक्ष-निकाय के उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५; इक) । २ यक्षदेवों की एक जाति (सिरि ६६६; इक) । ३ देव-विशेष । ४ शिखर-विशेष (राज; इक) । ५ एक देव-विमान (राज) ।

माणिम देखो माण = मानय् ।

माणी स्त्री [मानिका] २५६ पलों का एक माप (अणु १५२) ।

माणुस पुंन [माणुप] १ मनुष्य, मानव, मर्त्य (सूत्र १, ११, ३; पएह १, १; उव; सुर ३, ५६; प्राप्र; कुमा); 'जंपुण हिययाणंदं जणेइ तं माणुसं विरलं' (कुप्र ६), 'मयाणि माइपिइपुहमाणुसारिण सव्वाणि' (कुप्र २६) । २ वि. मनुष्य-संबन्धी; 'तिविहं क्हावत्थुं ति पुब्बायारियपवाओ, तं जहा, दिव्वं दिव्वमाणुसं माणुसं च' (स २) ।

माणुसी स्त्री [माणुपी] १ स्त्री-मनुष्य, मानवी (पव २४१; कुप्र १६०) । २ मनुष्य से संबन्ध रखनेवाली; 'माणुसी भासा' (कुप्र ६७) ।

माणुसुत्तर } पुं [माणुयोत्तर] १ पर्वत-माणुसोत्तर } विशेष, मनुष्यलोक का सीमा-कारक पर्वत (राज; ठा ३, ४; जीव ३) । २ न. एक देव-विमान (सम २) ।

माणुस्स देखो माणुस (आचा; श्रौप; धर्मवि १३; उपपं २; वित्ते ३००७); 'माणुस्सं लोमं' (ठा ३, ३—पत्र १४२), 'माणुस्सगाइ भोगभोगाई' (कप्प) ।

माणुस्स } न [माणुन्य, क] मनुष्यत्व, माणुस्सय } मनुसपन, मनुष्यता (सुपा १६६; स १३१ प्रासू ४७; पउम ३१, ८१) ।

माणुस्सी देखो माणुसी (पव २४०) ।

माणूस देखो माणुस (सुर २, १७२; ठा ३, ३—पत्र १४२) ।

माणेसरं पुं [माणेश्वरं] माणेश्वर यक्ष (मवि) ।

माणोरामा (अप) स्त्री [मनोरमा] छन्द-विशेष (पिण) ।

मातंग देखो मायंग (श्रौप) ।

मातंजण देखो मायंजण (ठा २, ३—पत्र ८०) ।

मातुलिग देखो माहुलिग (आचा २, १, ८, १) ।

मादलिआ स्त्री [दे] माता, जननी (दे ६, १३१) ।

माटु देखो माउ = स्त्री (प्राकृ ८) ।

माधवी देखो माहवी = माधवी (हास्य १३३) ।

माभाइ पुं स्त्री [दे] अभय-प्रदान, अभय-दान, अभय (दे ६, १२६; पट्) ।

माभीसिअ न [दे] ऊपर देखो (दे ६, १२६) ।

माम श्र. कोमल आमन्त्रण का सूचक शब्द (पउम ३८, ३६) ।

माम } पुं [दे] मामा, माँ का भाई (सुपा मामग } १६; १६५) ।

मामग } वि [मामक] १ मदीय, मेरा मामय } (आचा; अचु ७३) । २ ममतावाला (सूत्र १, २, २, २८) ।

मामय देखो मामग = (दे) (पउम ६८, ५५; स ७३१) ।

मामा स्त्री [दे] मामी, मामा की बहू (दे ६, ११२) ।

मामाय वि [मामाक] 'मा' 'मा' बोलनेवाला, निवारक (श्रौप ४३५) ।

मामास पुं [मामाप] १ अनार्य देश-विशेष । २ अनार्य देश में रहनेवाली मनुष्य-जाति (इक) ।

मामि श्र. सती के आमन्त्रण में प्रयुक्त किया जाता शब्द (हे २, १६५; कुमा) ।

मामिया } स्त्री [दे] मामा की बहू (विपा मामी } १, ३—पत्र ४१; दे ६, ११२; गा २०४; प्राकृ ३८) ।

माय वि [मात] समया हुआ (कम्म ५, ८५ टी; पुष्क १७२; महा) ।

माय वि [मायावत्] कपटवाला, 'कोहाए मायाए मायाए लोमाए' (पडि) ।

माय देखो मेत्त = मान; 'लोमुक्खणणमायमवि' (सूत्र २, १, ४८) ।

मायं देखो माया = माया (आचा) ।

मायं देखो मत्ता = मात्रा । 'न्न वि [न्न] परिमाण का जानकार (सूत्र २, १, ५७) ।

मायइ स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष (पउम ५३, ७६) ।

मायंग पुं [मातङ्ग] १ भगवान् सुपाश्वंताय का शासनयक्ष । २ भगवान् महावीर का शासन-यक्ष (संति ७, ८) । ३ हस्ती, हाथी (पात्र; सुर १, ११) । ४ चाण्डाल, डोम (पात्र) ।

मायंगी स्त्री [मातङ्गी] १ चाण्डालिन (निचू १) । २ विद्या-विशेष (आचू १) ।

मायंजण पुं [मातञ्जण] पर्वत-विशेष (इक) ।

मायंड पुं [मार्तण्ड] सूर्य, रवि (सुपा २४२; कुप्र ८७) ।

मायंद पुं [दे. माकन्द] आम्र, आम का पेड़ (हे २, १७४; प्राप्र; दे ६, १२८; कुप्र ७१; १०६) ।

मायंदिअ देखो मागंदिअ (भग १८, १) ।

मायंदी स्त्री [माकन्दी] नगरी-विशेष (स ६; कुप्र १०६) ।

मायंदी स्त्री [दे] श्वेताम्बर साध्वी (दे ६, १२६) ।

मायण्हया स्त्री [मृगतृष्णिका] किरण में जल की भ्रान्ति, मरु-मरीचिका; 'जह मुद्धमओ मायण्हयाए

तिसिओ करेइ जल-भुद्धि ।

तह निव्विवेयपरिसो

कुणइ श्रवमेवि धम्ममई' (सुपा ५००) ।



मायहिय (अप) देखो मागहिया (भवि) ।

माया = देखो माइ = मातृ; 'मायाइ ग्रहं भणियो' (वर्मवि ५; पात्र; विपा १, २; पड्) ।  
°पिइ, °पिति पुंन [°पितृ] मां-वाप (पि ३६१; स १८४) । °मह पुं [°मह] मां का वाप (सुर ११, ४६; सुपा ३८४) ।  
°वित्त देखो °पिइ; 'बुहियाण होइ सरणं मायावित्तं महिलियाणं' (पउम १७, २१); 'तियेव देवेण तहि मायावित्ताइं रोवमाणाइं' (सुर ६, २३५; १, २३६; वर्मवि २१, महा) ।

माया देखो मत्ता = मात्रा; 'नो अइमायाए पाणभोयणं आहारेत्ता (उत्त १६, ८; औप; उव: कस) ।

माया बी [माया] १ कपट, छल, शठत्व, धोखा (भग; कुमा; ठा ३, ४; पात्र; प्रासू १७५) । २ इन्द्रजाल (दे ३, ५३; उप ८२३) । ३ मन्त्रालय-विशेष; 'हो' अक्षर (सिरि १६७) । ४ छन्द-विशेष (पिग) ।  
°णर पुं [°नर] पुरुष-वेश-धारी बी-आदि (वर्मसं १२७८) । °वीय न [°वीज] 'हो' अक्षर (सिरि ४०१) । °मोस पुंन [°मृपा] कपट-पूर्वक असत्य वचन (खाया १, १; परह १, २; भग; औप) । °वत्तिअ, °वत्तीय वि [°प्रत्ययिक] कपट से होनेवाला, छल-मूलक (भग; ठा २, १; नव १७) । °वि वि [°विन्] मायायुक्त (पउम ८८, ११) । बी. °विणी (सुपा ६२७) ।

मायि वि [मायिन्] माया-युक्त, मायावी (उवा; पि ४०५) ।

मार सक [मार्य] १ ताड़न करना । २ हिंसा करना । मारइ, मारेइ (आचा; कुमा; भग) । भवि. मारेहिंसि (पि ५२८) । कर्म. मारिजइ (उव) । बह. मारंत, मारंत (भक्त ६२; पउम १०५, ७६) । कवह. मारिजंत (सुपा १५७) । संह. मारेत्ता (महा), मारि (अप) (हे ४, ४३६) । हेह. मारिउं (महा) : ह. मारियन्व, मारेयन्व (पउम ११, ४२), मारणिज्ज (उप ३५७ टी) ।

मार पुं [मार] १ ताड़न (सुपा २२६) । २ मरण, मौत (आचा; सूत्र २, २, १७; उप ४०८) । ३ अम, जम (सूत्र १, १, ३,

७) । ४ कामदेव, कंदर्प (उप ७६८ टी) । ५ चौथा नरक का एक नरकावास (ठा ४, ४—पत्र २६५; देवेन्द्र १०) । ६ वि. मारने-वाला (खाया १, १६—पत्र २०२) । °वहू बी [°वधू] रति (सुपा ३०४) ।

मार पुं [मार] मरि का एक लक्षण (राय ३०) ।

मारग वि [मारक] मारनेवाला । बी. °रिगा (कुप्र २३५) ।

मारण न [मारण] १ ताड़न । २ हिंसा (भग; स १२१) ।

मारणअ (अप) वि [मारयितृ] मारनेवाला (हे ४, ४४३) ।

मारणतिअ वि [मारणान्तिक] मरण के अन्त समय का (सम ११; ११६; औप; उवा; कप) ।

मारणया } बी [मारणा] मारना (भग; मारणा } परह १, १; विपा १, १) ।

मारय देखो मारग (उव; संशोध ४३) ।

मारा बी [मारा] प्राणि-वच का स्थान, सूना (खाया १, १६—पत्र २०२) ।

मारि बी [मारि] १ रोग-विशेष, मृद्यु-दायक रोग (स २४२) । २ मारण (आचम) । ३ मौत, मृद्यु (उप ३२६) ।

मारि हेको मार = मार्य ।

मारि वि [मारिन्] मारनेवाला (महा) ।

मारिज्ज पुं [मारीच] रावण का एक सुभट (पउम ५२, ७) । देखो मारीअ ।

मारिज्जि देखो मारेइ (पउम ८२, २६) ।

मारिय वि [मारित] मारा हुआ (महा) ।

मारिलग्गा बी [दि] कुत्सित बी (दे ६, १३१) ।

मारिव पुंन [दि] गौरव, 'गौरवे मारिवे' (संज्ञि ४७) ।

मारिस वि [माइश] नेरे जैसा (कुमा) ।

मारी बी [मारी] देखो मारि (स २४२) ।

मारिअ पुं [मारीच] ऋषि-विशेष (अभि २४६) । देखो मारिज्ज ।

मारीइ } पुं [मारीचि] एक विद्यावर  
मारीज्ज } सामन्त राजा (पउम ८, ६३२) ।  
२ रावण का एक सुभट (पउम ५६, २७) ।

मारुअ पुं [मारुत] १ पवन, वायु (पात्र; सुपा २०४; सुर ३, ४०; १३, १६४; आप १४; महा) । २ हनुमान का पिता (सि २, ४४) । °तणय पुं [°तनय] हनुमान (सि ४४; हे ३, ८७) । °त्य न [°त्य] अन्न-विशेष, वातान्न (पउम ५६, ६१) ।

मारुअ पि [मारुक] मरु देश का, मरु-संशोध; 'एो अमयवत्तरो माह्यमि कत्तवइ धने होइ' (उप ६८६ टी) ।

मारुइ पुं [मारुति] हनुमान (सि १, ३७) ।

माल अक [माल्] १ शोभना । २ वेष्टित होना । ह. 'अच्चिसहस्समालगीयं' (खाया १, १—पत्र ३८) ।

माल पुं [दे] १ आराम, वनीचा (दे ६, १४६) । २ मन्त्र, आसन-विशेष (दे ६, १४६; खाया १, १—पत्र ६३; पंचा १३, १४) । ३ वि. मञ्जु (दे ६, १४६) ।

माल पुं [दे. माल] १ देश-विशेष (पउम ६८, ६५) । २ घर का उपरि-भाग, तला, मंजिल; गुजराती में 'मालो' (खाया १, ६—पत्र ५७; चेइय ४८१; पंचा १३, १४; ठा ३, ४—पत्र १५६) । ३ वनस्पति-विशेष (जं १) ।

मालं देखो माला । °गार वि [°कार] माली (उप ४ १६६) ।

मालइ } बी [मालती] १ लता-विशेष ।  
मालई } २ पुष्प-विशेष (पउम ५३, ७६; पात्र; कुमा) । ३ छन्द-विशेष (पिग) ।

मालंकार पुं [मालङ्कार] वैरोचन बलीन्द्र के हस्ति-चैत्य का अविपति (ठा ५, १—पत्र ३०२; इक) ।

मालणीय देखो माल = माल् ।

माल्य देखो माल = दे. माल (ठा ३, १—पत्र १२३) ।

माल्य पुं [माल्य] १ भारतीय देश-विशेष (इक; उप १४२ टी) । २ मालव देश का निवासी मनुष्य (परह १, १—पत्र १४) ।

माल्य पुं [माल्य] म्लेच्छ-विशेष, आदमी को उठा ले जानेवाली एक चोर जाति (वव ४) ।

मालवत पुं [मालवत] १ पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ६६; ८०; सम १०२)। २ एक रामकुमार (पउम ६, २२०)। परि-याग, परियाय पुं [परियाय] पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०; ६६)।

मालविणी स्त्री [मालविनी] लिपि-विशेष (विते ४६४ टो)।

माला स्त्री [माला] १ फूल आदि का हार, 'मल्ल माला दाम' (पाग्र; स्वप्न ७२; सुपा ३१६; प्रासू ३०; कुमा)। २ पंक्ति श्रेणी (पाग्र)। ३ समूह; 'जलमालकदमाल' (सूग्रनि १६१)। ४ छन्द-विशेष (पिंग)। ५ इन्द्र वि [०वत्] माला वाला (प्रांर)। ६ कारि वि [०कारिन्] माली, पुष्प-व्यवसायी। स्त्री. ०पी (सुपा ५१०)। ०गार वि [०कार] वही अर्थ (उप १४२; टी; अंत १८; सुपा ५६२; उप ५ १५६)। ०घर पुं [०घर] प्रतिमा के ऊपर के भाग की रचना-विशेष (चैश्य ६३)। ०यार, ०र देखो ०कार (अंत १८; उप ५ १५७; गा ५६६)। स्त्री. ०री (कुमा; गा ५६७)। ०हरा स्त्री [०हरा] छन्द-विशेष (पिंग)।

माला स्त्री [दे] ज्योत्सना, चन्द्रिका (दे ६, १२८)।

मालाकुंकुम न [दे] प्रधान कुंकुम (दे ६, १३२)।

मालि पुं स्त्री [मालि] वृक्ष-विशेष (सम १५२)।

मालि पुं [मालिन्] १ पाताल-लंका का एक राजा (पउम ६, २२०)। २ देश-विशेष (इक)। ३ वि. माली, पुष्प-व्यवसायी (कुमा)। ४ शोभनेवाला (कुमा)।

मालिअ पुं [मालिक] ऊपर देखो (दे २, ८; परह १, २; सुपा २७३; उप ५ १५७)।

मालिअ वि [मालित] शोभित, विभूषित; परलोए पुण कल्लाएमालिअमालिअ कमेएव' (सा २३; पाग्र; उप २६४ टो)।

मालिआ स्त्री [मालिका; माला] देखो माला = माला (सा २३; स्वप्न ५३; श्रौप; उवा)।

मालिअ न [मालीय] एक जैन मुनि-कुल (कप्य)।

मालिणी स्त्री [मालिनी] १ माली की स्त्री (कुमा)। २ शोभनेवाली (श्रौप)। ३ छन्द-विशेष (पिंग)। ४ मालावाली (गउड)।

मालिण्य न [मालिन्य] मलिनता (उप मालिन्न) ५ २२; सुपा ३५२; ५८६)।

मालुग पुं [मालुक] १ श्रीन्द्रिय; जन्तु-मालुय विशेष (सुख ३६, १३८)। २ वृक्ष-विशेष (परण १—पत्र ३१; एयाया १, २—पत्र ७८)।

मालुया स्त्री [मालुका] १ वल्ली, लता (सूग्र १, ३, २, १०)। २ वल्ली-विशेष (परण १—पत्र ३३)।

मालुहाणी स्त्री [मालुहानी] लता-विशेष (गउड)।

मालूर पुं [दे. मालूर] कपिल्य, कैय का गाछ (दे ६, १३०)।

मालूर पुं [मालूर] १ त्रिल वृक्ष, वेल का गाछ (दे ३, १६; गा ५७६; गउड, कुमा)। २ न. वेल का फल (पाग्र; गउड)।

माहय पुं [मातुल] मामा (पुष्पमाला माम्बह) ३२ श्लो० न भवभावना)।

माविअ वि [मापित] मापा हुआ (से ६, ६०; दे ८, ४८)।

मास देखो मंस = मांस (हे १, २६; ७०; कुमा; उप ७२८ टो)।

मास पुं [मास] १ महिना, तीस दिन का समय (ठा २, ४; उप ७६८ टो; जी ३५)।

२ समय, काल; 'कालमासे कालं किच्चा' (विपा १, १; २; कुप्र ३५), 'पसवमासे' (कुप्र ४०४)। ३ पर्व—वनस्पति-विशेष; 'बोल्पा- (? णी) तह इक्के य मासे य' (परण १—पत्र ३३)। ४ उस देखो तुस (राज)। ५ कप्य पुं [कल्प] एक स्यान में महिना तक रहने का आचार (बृह ६)।

६ खमण न [क्षपण] लगातार एक मास का उपवास (एयाया १, १; विपा २, १; भग)। ७ गुरु न [गुरु] तप-विशेष, एका-शन तप (संवोष ५७)। ८ तुस पुं [तुप] एक जैन मुनि (विवे ५१)। ९ पुरी स्त्री [पुरी] १ नगरी-विशेष, भृंगी देश की राजधानी (इक)। २ 'वर्त' देश की राजधानी; 'पावा भंगी य, मासपुरो वट्टा' (पव २७५)।

३ पुरिया स्त्री [पुरिका] एक जैन मुनि-शाखा (कप्य)। ४ लहु न [लघु] तप-विशेष, 'पुरिमड्ड' तप (संवोष ५७)।

मास पुं [माप] १ अनार्य देश-विशेष। २ देश-विशेष में रहनेवाली मनुष्य-जाति (परह १, १—पत्र १४)। ३ धान्य-विशेष, उडव (दे १, ६८)। ४ परिमाण विशेष, मासा (वज्जा १६०)। ५ पण्णो स्त्री [पर्णा] वनस्पति विशेष (परण १—पत्र ३६)।

मासल देखो मंसल (हे १, २६; कुमा)।

मासलिय वि [मांसलित] पुष्ट किया हुआ (गउड; सुपा ४७४)।

मासाहस पुं [मासाहस] पत्ति-विशेष, 'मासाहसउणिसमो कि वा चिट्ठामि घंघल्लियो' (संवे ६; उव; उर ३, ३)।

मासिअ पुं [दे] पिशुन, खल, दुर्जन (दे ६, १२२)।

मासिअ वि [मासिक] मास-सम्बन्धी (उवा; श्रौप)।

मासिआ स्त्री [मात्तुष्वत्] माँ की वहिन (धमंवि २२)।

मासु देखो मंसु = रमथु (हे २, ८६)।

मासुरी स्त्री [दे] रमथु, दाढ़ी-मूँछ (दे ६, १३०; पाग्र)।

माह पुं [माय] १ मास-विशेष, माघ का महिना (पाग्र; हे ४, ३५७)। २ संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि। ३ एक संस्कृत काव्य-ग्रंथ, शिशुपाल-वध काव्य (हे १, १८७)।

माह न [दे] कुन्द का फूल (दे ६, १२८)।

माहण पुं स्त्री [माहन, ब्राह्मण] हिंसा से निवृत्त, अहिंसक—१ मुनि, साधु, ऋषि। २ श्रावक, जैन उपासक। ३ ब्राह्मण (आज्ञा; सूग्र २, २, ४८; ५४; भग १, ७; २, ५; प्रासू ८०; मडा)। स्त्री. ०पी (कप्य)। ०कुंड न [कुण्ड] मगध देश का एक ग्राम (आज्ञा १)।

माहण पुं [माहात्म्य] १ महत्त्व, गौरव। २ महिमा, प्रभाव (हे १, ३३; गउड; कुमा; सुर ३, ५३; प्रासू १७)।

माहणपया स्त्री. ऊपर देखो (उप ७६८ टो)।

माहय पुं [दे] चतुरिन्द्रिय कीट-विशेष (उत्त ३६, १४६)।

माह्य पुं [माघ] १ श्रीकृष्ण, नारायण (गा ४४३; वज्रा १३०) । २ वसन्त ऋतु । ३ वैशाख मास (गा ७७७; तन्मि ५३) ।  
पण्डणी स्त्री [पण्डिनी] लक्ष्मी (स ५२३) ।

माह्यिथा स्त्री [माघिका] नीचे देखो (पाघ) ।

माह्यी स्त्री [माघी] १ लता-विशेष (गा ३२२; अग्नि १६६; स्वप्न ३६) । २ एक राज-पत्नी (पद्म ६, १२६; २०, १८४) ।

माहारयण न [दे] १ वज्र, कपड़ा । २ वज्र-विशेष (दे ६, १३२) ।

माहिंद पुं [माहेन्द्र] १ एक देव-लोक (सम ८) । २ एक इन्द्र, माहेन्द्र देवलोक का स्वामी (ठा २, ३—पत्र ८५) । ३ ज्वर-विशेष; 'माहिंदजरो जाग्रो' (सुपा ६०६) । ४ दिन का एक मुहूर्त (सम ५१) । ५ वि. महेंद्र-सम्बन्धी (पद्म ५५, १६) ।

माहिंदफल न [माहेन्द्रफल] इन्द्रयव, कौरिया का बीज (उत्तनि ३) ।

माहिल पुं [दे] महिषी-पाल, भैंस चरानेवाला (दे ६, १३०) ।

माहिवाय पुं [दे] १ शिशिर पवन (दे ६, १३१) । २ माघ का पवन (पड) ।

माहिसी देखो महिसी (कप्य) ।

माही स्त्री [माघी] १ माघ मास की पूरणिमा । २ माघ की अमावस्या (सुज्ज १०, ६) ।

माहुर वि [माधुर] मधुरा का (भक्त १४५) ।

माहुर न [दे] शाक, तरकारी (दे ६, १३०) ।

माहुर } वि [माधुर, क] १ मधुर रस-  
माहुरय } वाला । २ आम्ल रस से मिल  
रसवाला (उवा) ।

माहुरिअ न [माधुर्य] मधुरता (प्राक् १६) ।

माहुल्लिग पुं [मातुलिङ्ग] १ बीजपूर वृक्ष; बीजौरानीवृ का पेड़ (हे १, २४४; चंड) । २ न. बीजौरि का फल (पड; कुमा) ।

माहेसर वि [माहेश्वर] १ महेश्वर-भक्त (सिरि ४८) । २ न. नगर-विशेष (पद्म १०, ३४) ।

माहेसरी स्त्री [माहेश्वरी] १ लिपि-विशेष (सम ३५) । २ नगरी-विशेष (राज) ।

मि (अप) देखो अवि—अपि (अवि) ।

मिं स्त्री [मृत्] मिट्टी, मट्टी; 'जह मिल्ले-  
वावगमादलायुणोवस्समेव गइभावो' (विसे ३१४२) । °पिण्ड पुं [पिण्ड] मिट्टी का पिंडा (अग्नि २००) । °मय वि [मय] मिट्टी का बना हुआ (उप २४२; पिड ३३४; सुपा २७०) ।

मिअ देखो मय = मृग; 'सर्वाणियदोवेणं  
मिअो मअो वाहवाणेण' (सुर ८, १४२; उत्त १, ५; परह १, १; सम ६०; रंभा, ठा ४, २; पि ५४) । °चक्र न [चक्र] विद्या-विशेष, ग्राम-प्रवेश आदि में मृगों के दर्शन आदि से शुभाशुभ फल जानने की विद्या (सुप्र २, २, २७) । °णअणी, °नयणा स्त्री [नयना] देखो मय-च्छी (नाट; सुर ६; १५३) । °मय पुं [मय] कस्तूरी (रंभा ३५) । °रिउ पुं [रिउ] सिंह (सुपा ५७१) । °वाहण पुं [वाहन] भरतनेत्र के एक भावी तीर्थंकर (सम १५३) ।

मिअ पुं [मृग] हरिण के आकार का पशु-विशेष, जो हरिण से छोटा और जिसका पुच्छ लम्बा होता है । °लोमिअ वि [लोमिक] उसके बालों से बना हुआ (अणु ३५) ।

मिअ देखो मित्त = मित्र (प्राप्र) ।

मिअ वि [दे] अलंकृत, विभूषित (पड) ।

मिअ वि [मित्त] मानोपेय, परिमित (उत्त १६, ८; सम १५२; कप्य) । २ थोड़ा, अल्प; 'मिअं तुच्छं' (पाघ) । °वाइ वि [वादिन्] आत्मा आदि पदार्थों को परिमित माननेवाला (ठा ८—पत्र ४२७) ।

मिअ देखो मिअ = इव (गा २०६ अ; नाट) ।

मिअं देखो मिआ । °ग्राम पुं [ग्राम] ग्राम-विशेष (विपा १, १) ।

मिअआ स्त्री [मृगाया] शिकार (नाट—शकु २७) ।

मिअंक पुं [मृगाङ्क] १ चन्द्र, चाँद (हे १, १३०; प्राप्र; कुमा; काप्र १६४) । २ चन्द्र का विमान (सुज्ज २०) । ३ इक्ष्वाकु वंश का एक राजा (पद्म ५, ७) । °मणि पुं [मणि] चन्द्रकान्त मणि (कप्य) ।

मिअंग देखो मयंग = मृदंग (कप्य) ।

मिअसिर देखो मगसिर (पि ५४) ।

मिआ स्त्री [मृगा] १ राजा विजय की पत्नी (विपा १, १) । २ राजा वलभद्र की पत्नी (उत्त १२, १) । °उत्त, °पुत्त पुं [पुत्र] १ राजा विजय का एक पुत्र (विपा १, १; कर्म १५) । २ राजा वलभद्र का एक पुत्र, जिसका दूसरा नाम वलभो या (उत्त १६, २) । °वई स्त्री [वती] १ प्रथम वासुदेव की माता का नाम (सम १५२) । २ राजा शतानीक की पटरानी का नाम (विपा १, ५) ।

मिइ स्त्री [मिति] १ मान, परिमाण । २ हृद, प्रवाधि; 'किं दुक्करमुवायाणं न मिइ जमुवायसतीए' (धर्मवि १४३) ।

मिइ देखो मिउ = मृत् (धर्मसं ५५८) ।

मिइंग देखो मयंग = मृदंग (हे १, १३७; कुमा) ।

मिइंद देखो मइंद = मृगेन्द्र (अग्नि २४२) ।

मिउ स्त्री [मृट्] मिट्टी, मट्टी; 'मिउदंडवक्क-  
चीवरसामगोवसा कुलालुज्ज' (सम्मत् २२४), 'मिउपिडो दव्वघडो मुसावगो तह य दव्वसाहु ति' (उप २५५ टी) ।

मिउ वि [मृट्] कोमल, सुकुमार (औप; कुमा; सण) ।

मिउ वि [मृट्] मनोक्त, सुन्दर; 'मिउमइव-  
संपन्ने' (एदि ५२) ।

मिचण न [दे] मीचन, निमीलन (दे ३, ३०) ।

मिज स्त्री [मज्जा] १ शरीर-स्थित वातु-  
मिजा } विशेष, हाड के बीच का अयव-  
मिजिय } विशेष (परह १, १—पत्र ८; महा;  
उवा; औप) । २ मध्यवर्ती अयवव; 'पिट्ठण-  
मिजिया इवा' (परण १७—पत्र ५२६) ।

मिठ पुं [दे] हस्तिपक, हाथी का महावत्त  
मिठिल } (उप १२८ टी; कुप्र ३६८; महा;  
भक्त ७६; धर्मवि ८१; १३५; मन १०;  
उप १३०) । देखो मेंठ ।

मिड पुं [मिड्] १ मेंडा, भेड़, भेड़, गाडर  
मिड्य } (विसे ३०४ टी; उप पृ २०५; कुप्र  
१६२), 'ते य दरा मिडया ते य' (धर्मवि

१४०) । छी. °डिया (पात्र) । २ न. पुष्प-  
लिंग, पुष्प-चिह्न (राज) । °मुह पुं [°मुख]  
१ अनार्य देश-विशेष (पत्र २७४) । २ न.  
नगर-विशेष (राज) । देखो मेट्ट ।

मिडिय पुं [मोण्डिक] ग्राम-विशेष (कर्म १) ।

मिग देखो मय = मृग (विपा १, ७; सुर २,  
२२७; सुपा १६८; उव), 'सीहो मिगाए  
सलिलाए गंगा' (सूत्र १, ६; २१) । °गंध  
पुं [°गन्ध] युगलिक मनुष्य की एक जाति  
(इक) । °नाह पुं [°नाथ] सिंह (सुपा  
६३२) । °वइ पुं [°पति] सिंह (परह १,  
१; सुपा ६३६) । °वालुंकी छी [°वालुङ्की]  
वनस्पति-विशेष (परह १७—पत्र ५३०) ।  
°रि पुं [°रि] सिंह (उव; सुर ६, २७०) ।  
°हिय पुं [°धिप] सिंह (परह २, ५) ।

मिगया छी [मृगया] शिकार (सुपा २१४;  
कुप्र २३; मोह ६२) ।

मिगव्य न [मृगव्य] ऊपर देखो (उत्त  
१८, १) ।

मिगसिर देखो मगसिर (सम ८; इक; पि  
४३६) ।

मिगावई देखो मिआ-वई (पउम २०, १८४  
२२, ५५; उव; अंत; कुप्र १८३; पडि) ।

मिगी छी [मृगी] १ हरिणी (महा) । २  
विद्या-विशेष (राज) । °पद न [°पद] छी  
का गुह्य स्थान, योनि (राज) ।

मिच्छु देखो मच्छु (पड; कुमा) ।

मिच्छ (अप) देखो इच्छ = इप्; 'न उ देइ  
कप्पु मिच्छइ न न दंडु' (भवि) ।

मिच्छ पुं [म्लेच्छ] यवन, अनार्य मनुष्य  
(पउम २७, १८; ३४, ४१; ती १५; संबोध  
१६) । °पहु पुं [°प्रभु] म्लेच्छों का राजा  
(रंभा) । °पिय न [°प्रिय] पलाएडु, प्याज,  
लशुन; 'मिच्छपियं तु भुत्तं जा गंवा ता न  
हिंरति' (वृह ५) । °हिय पुं [°धिप]  
यवनों का राजा (पउम १२, १४) ।

मिच्छ न [मिथ्य] १ असत्य वचन, झूठ ।  
२ वि. असत्य, झूठा; 'मिच्छं ते एवमाहंसु'  
(भग), 'तं तथा, नेव मिच्छं' (पउम २३,  
२६) । ३ मिथ्यादृष्टि, सत्य पर विश्वास नहीं  
रखनेवाला, तत्त्व का अश्रद्धालु; 'मिच्छो

हियाहियविभागाएणसएणासमन्निओ कोइ'  
(विसे ५१६) ।

मिच्छ देखो मिच्छा (कम्म ३, २; ४) ।

°कार पुं [°कार] मिथ्या-करण (आवम) ।  
°त्त न [°त्व] सत्य तत्त्व पर अश्रद्धा;  
सत्य धर्म का अविश्वास (ठा ३, ३;  
आहु ६; भग; औप; उप ५३१; कुमा) ।  
°त्ति वि [°त्विन्] सत्य धर्म पर विश्वास  
नहीं करनेवाला, परमार्थ का अश्रद्धालु (दं  
१८) । °दिट्ठि, °दिट्ठीय, °दिट्ठि, °दिट्ठिय  
वि [°दृष्टि, °क] सत्य धर्म पर श्रद्धा नहीं  
रखनेवाला, जिन-धर्म से मित्त धर्म को मानने-  
वाला (सम २६; कुमा; ठा २, २; औप;  
ठा १) ।

मिच्छा अ [मिथ्या] १ असत्य, झूठा  
(पात्र) । २ कर्म-विशेष, मिथ्यात्व-मोहनीय  
कर्म (कम्म २, ४; १४) । ३ गुण-स्थानक  
विशेष, प्रथम गुण-स्थानक (कम्म २, २; ३;  
१३) । °दंसण न [°दर्शन] १ सत्य तत्त्व  
पर अश्रद्धा (सम ८; भग; औप) । २ असत्य  
धर्म (कुमा) । °नाण न [°ज्ञान] असत्य  
ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अज्ञान (भग) । °सुध  
न [°श्रुत] असत्य शास्त्र, मिथ्यादृष्टि-प्रणीत  
शास्त्र (एदि) ।

मिज्ज अक [मृ] मरना । मिज्जंति (सूत्र १,  
७, ६) । वक्क. मिज्जमाण (भग) ।

मिज्जंत } देखो मा = मा ।  
मिज्जमाण }

मिज्ज वि [मिथ्य] शुचि, पवित्र (उप ७२८  
टी) ।

मिट सक [दे] मिटाना, लोप करना । मिटि-  
ज्जु (पिंग) । प्रयो. मिटावह (पिंग) ।

मिट्ट वि [मिट्ट, मट्ट] मीठा, मधुर; 'मृहमिट्टा  
मणवुद्धा वेसा सिट्ठाण कहमिट्टा' (धर्मवि  
६५; कप्पु; सुर १२, १७; हे १, १२८;  
रंभा) ।

मिण सक [मा, मी] १ परिमाण करना,  
नापना, तोलना । २ जानना, निश्चय करना ।  
मिणइ (विसे २१८६), मिणसु (पत्र २५४) ।

मिणण न [मान] मान, माप, परिमाण (उप  
पु ६७) ।

मिणाय न [दे] बलाकार, जबरदस्ती (दे ६,  
११३) ।

मिणाल देखो मुणाल (प्राक ८; रंभा) ।

मित्त पुं [मित्र] १ सूर्य, रवि (सुपा ६४५;  
सुख ४, ६; पात्र; वजा १४४) । २ नक्षत्रदेव-  
विशेष, अनुराधा नक्षत्र का अधिष्ठायक देव  
(ठा २, ३—पत्र ७७; सुज १०, १२) । ३  
अहोरात्र का तीसरा मूर्हतं (सम ५१; सुज्ज  
१०, १३) । ४ एक राजा का नाम (विपा  
१, २) । ५ पुंन. दोस्त, वयस्य सखा; 'मित्तो  
सही वयंसो' (पात्र), 'पहाणमित्ता' (स  
७०७), 'तिविहो मित्तो हवइ' (स ७१५;  
सुपा ६४५; प्रासू ७६) । °केसी छी [°केसी]  
स्वक पवत पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी  
देवी; अलं दुसा मित (?त्त) केसी' (ठा ८—  
पत्र ४३७; इक) । °गा छी [°गा] वैरोचन  
बलीन्द्र की एक अग्र-महिषी; एक इन्द्राणी  
(ठा ४, १—पत्र २०४) । °णंदि पुं  
[°नन्दिन्] एक राजा का नाम (विपा २,  
१०) । °दाम पुं [°दाम] एक कुलकर  
पुरुष का नाम (सम १५०) । °देवा छी  
छी [°देवा] अनुराधा नक्षत्र (राज) । °व  
वि [°वत्] मित्रवाला (उत्त ३, १८) ।  
°सेण पुं [°सेन] एक पुरोहित-पुत्र (सुपा  
५०७) ।

मित्त देखो मेत्त = मात्र (कप्प; जी ३१;  
प्रासू १४५) ।

मित्तल पुं [दे] कन्दर्प, काम (दे ६, १२६;  
सुर १३, ११८) ।

मित्ति छी मत्ति] १ मान, परिमाण । २  
सापेक्षता;

'उससगववायाएणं मित्तीए अह ए भोयएणं दुट्टं ।  
उससगववायाएणं मित्तीइ तहए उवगरएणं'

(अज्ज ३७) ।

मित्तिआ छी [मृत्तिका] मिट्टी, मट्टी (अभि  
२४३) । °वई छी [°वती] दशाएणं देश की  
प्राचीन राजधानी (विचार ४८) ।

मित्तिज्ज अक [मित्रीय] मित्र को चाहना ।  
वक्क. मित्तिज्जमाण (उत्त ११, ७) ।

मित्तिथ न [मैत्रेय] १ गोत्र-विशेष, जो वत्स  
गोत्र की एक शाखा है । २ पुंछी, उस गोत्र में  
उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) ।

मिचित्तिय पुं [दे] ज्येष्ठ, पति का बड़ा भाई (दे ६, १३२)।

मिच्ची स्त्री [मैत्री] मित्रता, दोस्ती (सूत्र २, ७, ३६; आ १४; प्राप् ८)।

मिथुण देखो मिहुण (पञ्चम ६६, ३१)।

मिट्टु देखो मिड (अभि १८३; नाट—रत्ना ८०)।

मिरिअ पुंन [मिरिच] १ मरिच का गाछ। २ मिरच, मिर्चा (परण १७—पत्र ५३१; हे १, ४६; ठा ३, १ टी; पत्र २५६)।

मिरिआ स्त्री [दे] कुटी, भोंपड़ी (दे ६, १३२)।

मिरिइ पुंनो [मरीचि] किरण, प्रभा, मिरि तेज; 'चंचलमिरिइकवयं' (श्रौप), मिरिइ 'सप्यहा समिरि (?री) या' (श्रौप), मिरिरीय 'निककंडच्छाया समिरीया' (श्रौप; ठा ४, १—पत्र २२६), 'विज्जुयणमिरीइसूर-द्विपंतलेय—' (श्रौप), 'सूरमिरीयकवयं विण्णम्म्यंतेहि' (परह १, ४—पत्र ७२)।

मिल अक [मिल्] मिलना। मिलइ (हे ४, ३३२; रंभा; महा)। कर्म, मिलिज्जइ (हे ४, ४३४)। वक्र, मिलंत (से १०, १६)।

मिलवत्थु पुंन, देखो मिच्छ = म्लेच्छ (श्रौघ ४४०; धर्मसं ५०८; ती १५; उत्त १०, १६), 'मिलक्खणि' (पि ३८१)।

मिलण न [मिलन] मेल, मिलना, एकत्रित होना; 'लोगमिलणम्मि' (उप ५७८; सुपा २५०)।

मिलणा स्त्री, ऊपर देखो (उप १२८ टी; उप ७०६)।

मिळा } अक [म्ले] म्लान होना, निस्तेज  
मिळाअ } होना। मिलाइ, मिलाअइ (दे २, १०६; ४, १८; २४०; पड)। वक्र, मिळा-अंत, मिळाअमाण (पि १३६; ठा ३, ३; णाया १, ११)।

मिळाअ } वि [म्लान] निस्तेज, विच्छाय  
मिळाण } (णाया १, १—पत्र ३७; स ४२५; हे २, १०६, कुमा; महा)।

मिळाण न [दे] पर्याण (?) 'यासगमिला-णचमरीणंडपरिमंडियकंडीण' (श्रौप)।

मिळाणि स्त्री [म्लानि] विच्छायता (उप १४२ टी)।

मिलिअ वि [मिलित] मिला हुआ (गा ४४३; कुमा)।

मिलिअ वि [मेलित] मिलाया हुआ (कुमा)। मिलिच्छ देखो मिच्छ = म्लेच्छ (हे १, ८४; हम्मोर ३४)।

मिलिट्टु वि [मिलिट्ट] १ अस्पष्ट वाक्यवाला। २ म्लान। ३ न, अस्पष्ट वाक्य (प्राक् २७)।

मिलिमिलिमिल अक [दे] चमकना। वक्र, मिलिमिलिमिलंत (परह १, ३—पत्र ४४)।

मिलीण देखो मिलिअ (श्रौघभा २२ टी)।

मिल्ल सक [मुच्] छोड़ना, त्यागना। मिल्लइ (भवि)। वक्र, मिल्लंत (सुपा ३१७)। कृ, मिल्लेय (अप) (कुमा)। प्रयो., कवकृ, मिट्टाविज्जंत (कुप्र १६२)।

मिल्लविअ वि [मोचित] छोड़ा हुआ (सुपा ३८८; हम्मोर १८; कुप्र ४०१)।

मिल्लिअ (अप) देखो मिलिअ (पिण)।

मिल्लि वि [मोक्त्] छोड़नेवाला (कुमा)।

मिल्लइ देखो मिल्ल। मिल्लइ (आत्मानु २२), मिल्लंति (कुप्र १७)। भवि, मिल्लिस्सं (कुप्र १०)। कृ, मिल्लिह्यव्व (सिरि ३५७)।

मिल्लिह्य वि [मुक्त्] छोड़ा हुआ (आ २७)।

मिळ देखो इव (हे २, २८२; प्राप्; कुमा)।

मिळ सक [मिळ्] शब्द करना। वक्र, मिळसंत (तंदु ४४)।

मिळ न [मिळ] वहाना, दल, व्याज (वेइय ८३१; सिक्का २६; रंभा; कुमा)।

मिळामिळ अक [दे] १ अत्यन्त चमकना। २ ज्वल जलना। वक्र, मिळामिळसंत (णाया १, १—पत्र १६; तंदु २६; उप ६४८ टी)।

मिळल (अप) सक [मिथय्] मिथयण करना, मिलाना। भराठी में 'मिळलणें'। मिळलइ (भवि)।

मिळल (अप) देखो मीस, मीसालिअ (भवि)।

मिसिमिस देखो मिसमिस वक्र, मि-मिसंत, मिसिमिसंत, मिसिमिसिमाण, मिसिमिसीयमाण, मिसिमिसंत मिसिमिसेमाण (श्रौप, कप्प; पि ५५८; उवा; पि ५५८; णाया १, १—पत्र ६४)।

मिसिमिसिय वि [दे] उदीप्त, उत्तेजित (सुर ३, ५०)।

मिस्स सक [मिथय्] मिथयण करना, मिलाना। मिस्सइ (हे ४, २८)।

मिस्स देखो मीस = मिथ (भग)।

°मिस्स पुं [°मिथ्र] पूज्य, पूजनीय; 'वत्तिट्टु-मिस्सो' (उत्तर १०३)।

मिस्साकूर पुंन [मिथ्राकूर] श्राद्ध-विशेष, 'अणुराहाहि मिस्साकूरं भोच्चा कप्पं तापेंवि' (सुज्ज १०, १७)।

मिह अक [मिध्] स्नेह करना। मिहसि (सुर ४, २१)।

मिह देखो मिस = मिप; 'निग्गमो अलियणा-मंतरगमणमिहेण' (महा)।

मिह देखो मिहो (आचा)।

मिहिआ स्त्री [दे] मेघ-समूह (दे ६, १३२)। देखो महिआ।

मिहिआ स्त्री [मेघिआ] अल्प मेघ (सं ४, १७)। देखो महिआ।

मिहिर पुं [मिहिर] सूर्य, रवि (उप पृ ३५०; सुपा ४१६; वमां ५),

'सायरनिसावराणं मेहसिहडोण  
मिहिरनलिणीणं।

दूरेवि वसंताणं पडिवत्तं

नल्ला होइ

(उप ७२८ टी)।

मिहिला स्त्री [मिथिला] नगरी-विशेष (ठा १०; पञ्चम २०, ४५; णाया १, ८—पत्र १२४; इक)।

मिहु } देखो मिहो (उप ६४७; आचा)।  
मिहु }

मिहुण न [मिथुण] १ स्त्री-पुरुष का युग्म, दंपती (हे १, १८७; पात्र; कुमा)। २ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि (विचार १०६)।

मिहो अ [मिथस्] परस्पर, आपस में (उप ६७६; स ५३६; पि ३४७)।

मीअ न [दे] समकाल, उसी समय (दे ६, १३३)।

मीण पुं [मीण] १ मत्स्य, मछली (पात्र; गडड; श्रौघ ११६; सुर ३; ५३; १३, ४६)।

२ ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-विशेष (सुर ३, ५३; विचार १-६; संबोध ५४)।

मीत देखो मित्त = मित्र (संज्ञि १७) ।  
मीमंस सक [मीमांस] विचार करता ।  
कृ. अ-मीमंसा गुहं (स ७३०) ।  
मीमंसा लो [मीमांसा] जैमिनीय दरान,  
पूर्वमीमांसा (सुख ३, १; धर्मवि ३८) ।  
मीमंसिय वि [मीमांसित] विचारित (उप  
६८६ टी) ।  
मीरा लो [दे] दीर्घं चुल्ली, वडा चुल्हा  
(सूत्रनि ७६) ।  
मील अक [मील्] मीचाना, बन्द होना,  
सकुचाना । मीलइ (हे ४, २३२; पड्) ।  
मील देखो मिल (वि ११) ।  
मीलच्छीकार पुं [मीलच्छीकार] १ यवन  
देश-विशेष, 'मीलच्छीकारदेशोवरि चलितो  
खण्डखाणराया' (हम्मीर ३५) । २ एक  
यवन राजा (हम्मीर ३५) ।  
मीलणं न [मीलन] संकोच (कुमा) ।  
मीलण देखो मिलण; 'खण्डखणमणमीलणोवमा  
विसया' (वि ११; राज) ।  
मीलिअ देखो मिलिअ = मिलित (पिंग) ।  
मीस सक [मिश्रय] मिलाना, मिश्रण  
करना । कर्म. मीसिअइ (पि ६४) ।  
मीस वि [मिश्र] १- संयुक्त, मिला हुआ,  
मिश्रित (हे १, ४३; २- १७०; कुमा; कम्म  
२, १३, १५; ४, १३; १७; २४; भग;  
श्रौप; दं २२) । २ न. लगातार तीन दिनों  
का उपवास (संबोध ५८) ।  
मीसालिअ वि [मिश्र] संयुक्त, मिला हुआ  
(हे २, १७०; कुमा) ।  
मीसिय वि [मिश्रित] ऊपर देखो (कुमा;  
कप्प; भवि) ।  
मुअ सक [मोदय] खुश करना । कवक.  
मुइजंत (सि ७, ३७) ।  
मुअ सक [मुच्] छोड़ना । मुअइ (हे ४,  
६१), मुअंति (गा ३१६) । वक. मुअंत,  
मुयमाण (गा ६४१; से ३, ३६; पि ४८५) ।  
संक्र. मुइत्ता (भग) ।  
मुअ वि [मृत] मरा हुआ (से ३, १२; गा  
१४२; वजा १५८; प्रासू ५७; पउम १८;  
१६; उप ६४८ टी) । वहण न [वहन]  
शव-यान, ठठरी, अरथी (दे २, २०) ।

मुअ वि [स्मृत] याद किया हुआ (सूअ २,  
७, ३८; आचा) ।  
मुअंक्र देखो मिअंक्र (प्राकृ ८) ।  
मुअंग देखो मिअंग (पड्; सम्मत २१८) ।  
मुअंगी लो [दे] कीटिका, चींटी (दे ६,  
१३४) ।  
मुअग्ग पुं [दे] 'आत्मा वाह्य और अन्त्यन्तर  
पुद्गलों से बना हुआ है' ऐसा मिथ्या ज्ञान  
(ठा ७ टी—पत्र ३८३) ।  
मुअण न [मोचन] छुटकारा, छोड़ना (सम्मत  
७८; वित्ते ३३१६; उप ५२०) ।  
मुअल (अप) देखो मुअ = मृत (पिंग) ।  
मुआ लो [मृन्] मिट्टी (संज्ञि ४) ।  
मुआ लो [मुद्] हर्ष, खुशी, आनन्द;  
'सुस्परसाओवि मुयं अहियं उवजणइ तस्स  
सा एसा' (रंभा) ।  
मुआइणी लो [दे] डुम्बी, डोमिन, ज़ाएडालिन  
(दे ६, १३५) ।  
मुआविअ वि [मोचित] छुड़वाया हुआ (स  
४४६) ।  
मुइ वि [मोचिन्] छोड़नेवाला (वित्ते ३४०२) ।  
मुइअ वि [मुदित] १ हर्षित, मोद-प्राप्त (सुर  
७, २२३; प्रासू १०५; उव; श्रौप) । २ पुं.  
रावण का एक लुभट; (पउम ५६, ३२) ।  
मुइअ वि [दे] योनि-शुद्ध, निर्दोष मातावाला;  
'मुइओ जो होई जोगिसुद्धो' (श्रौप—टी) ।  
मुइअंगा देखो मुअंगी; 'उवलिपंते काया  
मुइअंगाई नवरि छट्टे' (पिड ३५१) ।  
मुइंग देखो मिअंग (हे १, ४६; १३७; प्राप्र;  
उवा; कप्प; सुपा ३६२; पाअ) । पुक्खर  
पुंन [पुक्कर] मुइंग का ऊपरवाला भाग  
(भग) ।  
मुइंगलिया } लो [दे] कीटिका, चींटी (उप  
मुइंगा } १३४ टी; संथा ८६; वित्ते  
१२०८; पिड ३५१ टी) ।  
मुइंगि वि [मृदञ्जिन्] मृदंग बजानेवाला  
(कुमा) ।  
मुइंद देखो मइंद = मृगेन्द्र (प्राकृ ८) ।  
मुइजंत देखो मुअ = मोदय ।  
मुइर वि [मोक्त्] छोड़नेवाला (सण) ।  
मुउ देखो मिउ (काल) ।

मुउउंद पुं [मुचुकुन्द] १ नृप-विशेष (अञ्चु  
६६) । २ पुष्पवृक्ष-विशेष (कप्प) ।  
मुउंद पुं [मुकुन्द] विष्णु, नारायण (नाट—  
चैत १२६) ।  
मुउर देखो मउर = मुकुर (पड्) ।  
मुउल देखो मउल = मुकुल (पड्; मुद्रा ८४) ।  
मुंगायण न [मृङ्गायण] गोत्र-विशेष, विशाखा  
नक्षत्र का गोत्र (इक) ।  
मुंच देखो मुअ = मुच् । मुंचइ, मुंचए (पड्;  
कुमा) । भूका. मुंची (भत ७६) । भवि.  
मोच्छं, मोच्छिहि, मुंचिहिइ (हे ३, १७१;  
पि ५२६) । कर्म. मुच्चइ; मुचए, मुचंति  
(आचा; हे ४, २०६; महा; भग) । भवि.  
मुचिहिति (भग) । वक. मुंचंत (कुमा) ।  
कवक. मुचंत (पि ५४२) । संक्र. मोत्तुं,  
मोत्तुआण, मोत्तूण (कुमा; पड्; प्राकृ ३४) ।  
हेक. मोत्तं (कुमा), मुंचणहिं (अप) (कुमा) ।  
कृ. मोत्तव्य, मुत्तव्य (हे ४, २१२; गा  
६७२; सुपा ५८६) ।  
मुंज पुंन [मुञ्ज] मूँज, वृष-विशेष, जिसकी  
रस्ती बनाई जाती है (सूअ २, १, १६;  
गच्छ २, ३६; उप ६४८ टी) । 'मेहला  
लो [मेखला] मूँज का कटिसूत्र (खाया १;  
१६—पत्र २१२) ।  
मुंजइ न [मौञ्जिन्] १ गोत्र-विशेष । २  
पुंजी, गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) ।  
मुंजकार पुं [मुञ्जकार] मूँज की रस्ती  
बनानेवाला शिल्पी (अणु १४६) ।  
मुंजायण पुं [मौजायन] ऋषि-विशेष (हे  
१, १६०; प्राप्र) ।  
मुंजि पुं [मौञ्जिन्] ऊपर देखो (प्राकृ १०) ।  
मुंट वि [दे] हीन शरीरवाला,  
'जे बंभवेरभट्टा पाए पाउंति बंभयारीणं ।  
ते हंति दुंठुंठा वोहीवि सुइल्लहा तेसि'  
(संबोध १४) ।  
मुंड सक [मुण्डय] १ मूँडना, बाल  
उखाड़ना । २ दीक्षा देना, संन्यास देना ।  
मुंडइ (भवि), मुंडेह (सूअ २, २, ६३) ।  
प्रयो., वक. मुंडावेत्त (पंचा १०, ४८ टी) ।  
हेक. मुंडावेत्तं, मुंडावित्तए, मुंडावेत्तए  
(पंचा १०, ४८; ठा २, १; कस) ।

मुंड पुंन [मुण्ड] १ मस्तक, सिर (हे ४; ४४६; पिण) । २ वि. मुण्डित, दोसित, प्रव्रजित (कण; उवा; पिड ३१४) । °परसु पुं [°परशु] नंगा कुल्हाड़ा, तीक्ष्ण कुठार (परह १, ३—पत्र ५४) ।

मुंडण न [मुण्डन] केशों का अपनयन (पंचा २, २; स २७१; सुर १२, ४५) ।

मुंडा वी [दे] मृगो; हरिणी (दे ६, १३३) ।

मुंडाविअ वि [मुण्डित] मुंडाय्या हुआ (भग; महा; राया १, १) ।

मुंडि वि [मुण्डिन्] मुण्डन करनेवाला (उव; औप; भत १००) ।

मुंडिअ वि [मुण्डित] मुण्डन-युक्त (भग; उप ६३४; महा) ।

मुंडी वी [दे] नोरङ्गी, शिरो-वन्न, धूषट (दे ६, १३३) ।

मुंड } पुं [मुर्धन] मुर्धा, मस्तक, सिर  
मुंडाण } (हे १, २६; २, ४१; पड्) ।  
देखो मुद्ध = मुर्धन् ।

मुक्कलाव सक [दे] भेजवाना, गुजराती में 'मोकलाववु' । संक्र. मुक्कलाविऊण (सिरि ४७४) ।

मुक्कुर पुं [मुक्कुर] दवाण, आरिना (दे १, १४) ।

मुक्क (अप) सक [मुच्] छोड़ना; गुजराती में 'मुक्कवु' । मुक्कइ (प्राक् ११६) । संक्र. मुक्किअ (नाट—चैत ७६) ।

मुक्क वि [मुक्क] वाक्-शक्ति से रहित, भूँगा (हे २, ६६; सुग ५५२; पड्) ।

मुक्क देखो मुक्कल (विने ५५०) ।

मुक्क वि [मुक्क] १ छोड़ा हुआ, त्यक्त (उवा; सुग ४७५; महा; पात्र) । २ मुक्ति-प्राप्त, मोक्ष-प्राप्त (हे २, २) । ३ लगतार पाँच दिन का उपवास (संनोध ५८) । देखो मुक्त = मुक्त ।

मुक्कय न [दे] दुलहिन के अतिरिक्त अन्य निमन्वित कन्याओं का विवाह (दे १, १३५) ।

मुक्कल वि [दे] १ उचित, योग्य (दे ६, १४७) । २ स्वैर, स्वतन्त्र, कवन-मुक्त (दे ६, १४७; सुर १, २३३; विने १८; गउड; सिरि ३५३; पात्र; सुग १६८) ।

मुक्कलिअ वि [दे] कवन-मुक्त किया हुआ; अनियन्त्रित (दे १, १५६ टी) ।

मुक्कुंडी वी [दे] जूट (दे ६, ११७) ।

मुक्कुरुड पुं [दे] राशि, डेर (दे ६, १३६) ।

मुक्कैल्य देखो मुक्क = मुक्त (अणु १६८) ।

मुक्कख पुं [मोक्ष] १ मुक्ति, निर्वाण (सुर १४, ६५; हे २, ८६; सार्ध ८६) । २ छुटकारा; 'रिणमुक्क' (खण ६५; वमंवि २१) ।

मुक्कख वि [मूर्ख] अज्ञानी; वेवकूफ (हे २, ११२; कुमा; गा ८२; सुग २३१) ।

मुक्कख वि [मुख्य] प्रवान, नायक (हास्य १२५) ।

मुक्कख पुंन [मुक्क] १ अण्डकोप । २ वृत्त-विशेष । ३ चोर, तस्कर । ४ वि. मांसल पुष्ट (प्राप्र) ।

मुक्कखण देखो मोक्कखण (सिन्हा ४५) ।

मुक्कखणी वी [मोक्षणी] स्तम्भन से छुटकारा करनेवाली विद्या-विशेष (वमंवि १२४) ।

मुख देखो मुह = मुख (प्राप् ६; राज) ।

मुख पुं [मुख] १ एक म्लेच्छ-जाति (मृच्छ १५२) । २ गाड़ी के ऊपर का ढक्कन (अणु १५१) ।

मुग देखो मुग्ग; 'एगमुगमखवहणे असमत्यो कि गिरि वहइ' (सुग ४६१) ।

मुग्गुं देखो मउंउं = मुक्कुन्द (आचा २, १, २, ४; विने ७८ टी) ।

मुग्गुं पुं वी [दे] हाथ से चलनेवाले जन्तु की एक जाति, भुजपरिसर्प-जातीय एक प्राणी (परह १, १—पत्र ८) । वी. °सा (उवा) । देखो मंगुस, मुग्गस ।

मुग्ग पुं [मुद्ग] १ कान्य-विशेष, भूँगा (उवा) । २ रोग-विशेष (ति १३) । ३ पक्षि-विशेष, जल-काक (प्राप्र) । °पण्णी वी [°पर्णी] वनस्पति-विशेष (परह १—पत्र ३६) । °सेल पुं [°शैल] पर्वत-विशेष, कभी नहीं भांगनेवाला एक पर्वत (उप ७२८ टी) ।

मुग्गड पुं [दे] मोगल, म्लेच्छ-जाति विशेष (हे ४, ४०६) । देखो मोगगड ।

मुग्गर न [मुद्गर] १ पुष्प-विशेष (वज्जा १०६) । २ देखो मोगगर (प्राप्र; आप ३६; कण) ।

मुग्गरय न [दे. मुग्घारत] मुग्घा के साथ रमण (वज्जा १०६) ।

मुग्गल देखो मुग्गड (ती १५) ।

मुग्गस पुं [दे] नकुल, न्योता (दे ६, ११८) ।

मुग्गाइ अक [प्र + च्] फैलना । मुग्गाइइ (?) (धात्वा १४८) ।

मुग्गिल } पुं [दे] पर्वत-विशेष (ती ७; भत  
मुग्गिह } १६१) ।

मुग्गुसु देखो मुग्गस (दे ६, ११८) ।

मुग्घड देखो मुग्गड (हे ४, ४०६) ।

मुग्घुरुड देखो मुक्कुरुड (दे ६, १३६) ।

मुच्चुं देखो मुउउं (सुर २, ७६; मुच्चुं कुमा) ।

मुच्छ अक [मूर्च्छ] १ मूर्च्छित होना । २ आसक्त होना । ३ बढ़ना । मुच्छइ, मुच्छए (कस; सूत्र १, १, ४, २) । वक्क, मुच्छंत, मुच्छमाण (गा ५४६; आचा) ।

मुच्छणा वी [मूर्च्छना] गान का एक अंग (ठा ७—पत्र ३६५) ।

मुच्छा वी [मूर्च्छा] १ मोह (ठा २, ४; प्राप् १७६) । २ अचेतनावस्था, वेहोशी (उव; पडि) । ३ गूढि, आसक्ति (सम ७१) । ४ मूर्च्छना, गीत का एक अंग (ठा ७—पत्र ३६३) ।

मुच्छाविअ वि [मूर्च्छित] मूर्च्छा-युक्त किया हुआ (से १२, ३८) ।

मुच्छिअ वि [मूर्च्छित] १ मूर्च्छा-युक्त (प्राप् ५७; उवा) । २ पुं. नरकावास-विशेष (देनेन्द्र २७) ।

मुच्छिजंत वि [मूर्च्छायमान] मूर्च्छा को प्राप्त होता (से १३, ४३) ।

मुच्छिअ पुं [मूर्च्छिम] मत्स्य-विशेष, 'वायाए काएणं मणरहिआएणं न दावणं कम्मं । जोअणतहस्समारो मुच्छिममच्छो उआहरणं' (मन ३) ।

मुच्छिर वि [मूर्च्छित्] १ बढ़नेवाला । २ वेहोशीवाला (कुमा) ।

मुच्छ अक [मुह] १ मोह करना । २ धवड़ाना । मुच्छइ (आचा; उव; महा) । भवि. मुच्छिंहिति (श्रीप) । क. मुच्छिमयव्व (परह २, ५—पत्र १४६; उव) ।

मुद्रिम पुंली [दि] गवै, अहंकार, गुजराती में 'मोटाई'; 'कयमुद्रिमंगीकारो' (हम्मीर ३५)। देखो मोद्रिम।

मुद्रु वि [मुद्र, मुपित] जिसकी चोरी हुई हो वह (पिड ४२६; सुर २, ११२; सुपा ३६१; महा)।

मुद्रि पुंली [मुद्रि] मुठ्ठी, मूठी, घूसा, मुक्का; 'मुद्रिया', 'मुद्रिअ' (पिड ७६; ३६५; पात्र; रंभा; भवि)। 'जुम्ह न [मुद्र] मुद्रि से को जाती लड़ाई, मुकामुकी (आचा)। 'पुल्यय न [पुस्तक] १ चार अंगुल लम्बा वृत्ताकार पुस्तक। २ चार अंगुल लम्बा चतुष्कोण पुस्तक (पत्र ८०)।

मुद्रिअ पुं [मौद्रिक] १ अनायं देश-विशेष। २ एक अनायं मनुष्य-जाति (पएह १, १—पत्र १४)। ३ मुठ्ठी से लड़नेवाला मल्ल (पएह २, ५—पत्र १४६)। ४ वि. मुद्रि-सम्बन्धी (कप्य)।

मुद्रिअ पुं [मुद्रिक] १ मल्ल-विशेष, जिसको बलदेव ने मारा था (पएह १, ४—पत्र ७२; पिग)। २ अनायं देश-विशेष। ३ एक अनायं मनुष्य जाति (इक)।

मुद्रिका ली [दि] हिक्का, हिचकी (दे ६, १३४)।

मुड्ड देखो मुंड (कुमा)।

मुड्ड वि [मुग्ध, मूढ] मूर्ख, बेवकूफ (हम्मीर ५१)।

मुण सक [ज्ञा, मुण] जानना। मुणइ, मुणति, मुणिमो (हे ४, ७; कुमा)। कमं, मुणिज्जइ (हे ४, २५२), मुणिज्जामि (हास्व १३८)। वक्क, मुणंत, मुणित (महा; पउम ४८, ६)। कवक्क, मुणिज्जमाण (से २, ३६)। संह, मुणिय, मुणितं, मुणि-ऊण, मुणेऊण (श्रौप; महा)। क्क, मुणिअव्व, मुणेअव्व (कुमा; से ४, २४; नव ४२; कप्य; उव; जी ३२)।

मुणण न [ज्ञान मुणन] ज्ञान, जानकारी (कुप्र १८४; संवीव २५; वमंवि १२५; सण)।

मुणमुण सक [मुणमुणाय] अव्यक्त राज्य करना, बड़बड़ाना। वक्क, मुणमुणंत, मुणमुणित (महा)।

मुणाल पुंन [मृणाल] १ पद्मकन्द के ऊपर की बेल—लता (आचा २, १; ८, ११)। २ विस: पयनाल। ३ पद्म आदि के नाल का तन्तु—सूत्र (पात्र; णायो १, १३; श्रौप)। ४ वीरण का मूल। ५ पद्म, कमल; 'मुणालो', 'मुणाल' (प्राप्र; हे १, १३१)।

मुणालि पुं [मृणालिन्] १ पद्म-समूह। २ पद्म-युक्त प्रदेश, कमलवाला स्थान; 'मुणाली वाणाली' (सुपा ४१३)।

मुणालिया ली [मृणालिका, ली] १ मुणाली विद्य-तन्तु, कमल-नाल का सूता (नाट—रत्ना २६)। २ विस का अंकुर (गडड)। ३ कमलिनो (राज)। देखो मणालिया।

मुणि पुं [मुनि] १ राग-द्वेष-रहित मनुष्य, संत, साधु, ऋषि, यति (आचा; पात्र; कुमा; गडड)। २ अणदस्य ऋषि; 'जलहिजलं व मुणिया' (सुपा ४८६)। ३ सात की संख्या। ४ छन्द-विशेष (पिग)। 'चंद्र पुं [चन्द्र] १ एक प्रसिद्ध जैन आचार्य और ग्रंथकार, जो वारी देवसूरि के गुरु थे (वम्मो २५)। २ एक राज-पुत्र (महा)। 'नाह पुं [नाथ] साधुओं का नायक (सुपा १६०; २५०)। 'पुंगव पुं [पुङ्गव] श्रेष्ठ मुनि (सुपा ६७; श्रु ४१)। 'राय पुं [राज] मुनि-नायक (सुपा १६०)। 'वइ पुं [पति] वही अर्थ (सुपा १८१; २०६)। 'वर पुं [वर] श्रेष्ठ मुनि (सुर ४, ५६, सुपा २४४)। 'वेजयंत पुं [वेजयन्त] मुनि-प्रधान, श्रेष्ठ मुनि (सुप्र १, ६, २०)। 'सीह पुं [सिंह] श्रेष्ठ मुनि (पि ४३६)। 'सुव्वय पुं [सुव्रत] १ वर्तमान काल में उत्पन्न भारतवर्ष के वीसवें तीर्थंकर (सम ४३)। २ भारतवर्ष के एक भावी तीर्थंकर (सम १५३)।

मुणि पुं [दि. मुनि] कुल-विशेष, अगस्ति-कुम (दे ६, १३३; कुमा)।

मुणिअ वि [ज्ञात, मुणित] जाना हुआ (हे २, १६६; पात्र; कुमा; अवि १६; पएह १, २; उप १४३ टी)।

मुणिअ वि [दि. मुणिक] ग्रह-गृहीत, भूवा-विष्ट, पागल (भग १५—पत्र ६६५)।

मुणिइ पुं [मुनीन्द्र] श्रेष्ठ मुनि (हे १, ८४; भग)।

मुणिर वि [ज्ञात, मुणित] जाननेवाला (सण)।

मुणीश पुं [मुनीश] मुनि-नायक (उप १४१; टी; भवि)।

मुणीसर पुं [मुनीश्वर] ऊपर देखो (सुपा ३६६)।

मुणीसिम (अप) पुंन [मनुष्यत्त्व] १ मनुष्यपन। २ पुरुषार्थ (हे ४, ३३०)।

मुत्त सक [मूत्रय] मूतना, पेशाव करना। मुत्तंति (कुप्र ६२)।

मुत्त न [मूत्र] पत्रवण, पेशाव (सुपा ६१६)।

मुत्त देखो मुक्क = मुक्त (सम १; से २, ३०; जो २)। 'लय पुंली [लय] मुक्त जोवों का स्थान, ईपत्यागभारा नामक पृथिवी (इक)। ली. 'या (ठा ८, —पत्र ४४०; सम २२)।

मुत्त वि [मूर्त] १ मूर्तिवाला, रूपवाला; आकारवाला (चैत्य ६१)। २ कठिन। ३ मूढ़। ४ मूर्च्छा-युक्त (हे २, ३०)। ५ पुं, उववास, एक दिन का उपवास (संवीव ५८)। ६ एक प्राण का नाम (कप्य)।

मुत्त देखो मुत्ता (श्रौप; पि ६७, चैत्य १४)।

मुत्तव्व देखो मु'च।

मुत्ता ली [मुक्ता] मोती, मौक्तिक (कुमा)।

'जाल न [जाल] मुक्ता-समूह, मोतियों की माला (श्रौप; पि ६७)। 'दाम न [दामन्] मोतियों की माला (ठा ४, २)। 'वलि, 'वली ली [वलि, ली] १ मोती की माला, मोती का हार (सम ४४; पात्र)। २ तप-विशेष (अंत ३१)। ३ द्वीप-विशेष। ४ समुद्र-विशेष (राज)। 'मुत्ति ली [शुक्ति] १ मोती की शीप। २ मुद्रा-विशेष (चैद्य २४०; पंचा ३, २१)। 'हल्ल न [फल] मोती (हे १, २३६; कुमा; प्रासू २)। 'हल्लि वि [फलवत्] मोतीवाला (कप्य)।

मुत्ति ली [मूर्ति] १ रूप, आकार; 'मुत्ति-विमुत्तेवु' (पिड ५६; विसे ३१८२)। २ प्रतिविम्ब, प्रतिमूर्ति, प्रतिमा; 'चउमुहमुत्ति-



चक्रं (संघोष २) । ३ शरीर, देह (सुर १, ३; पात्र) । ४ काठिन्य, कठिनत्व (हे २, ३०; प्राप्र) । ० मंत वि [ ० मन् ] मुत्तिवाला, मूतं, ह्नी (धर्मवि ६; सुपा ३८६; श्रु ६७) ।

मुत्ति त्री [मुत्ति] १ मोक्ष, निर्वाण (आचा; पात्र; प्राप् १५५) । २ निर्लोभता, संतोष (आ ३१) । ३ मुक्त जीवों का त्याग, ईष्यप्राग्भारा पृथिवी (ठा ८—पत्र ४४०) । ४ निस्संगता (आचा) ।

मुत्ति वि [मुत्तिन्] बहु-मूत्र रोगवाला; 'उपरि च पास मुत्ति च सूरियं च गिलासिए' (आचा) ।

मुत्ति वि [मौत्तिन्, मौत्तिक] मोती पिरने या बूँथने वाला (उप पृ २१०) ।

मुत्तिअ न [मौत्तिक] मुक्ता, मोती (से ५, ४६; कुप्र ३; कुमा; सुपा २४; २४६; प्राप् ३६; १७१) । देखो मोत्तिअ ।

मुत्तोली त्री [दे] १ मूत्राशय (तंडु ४१) । २ वह छोटा कोठा जो ऊपर नीचे संकीर्ण और मध्य में विशाल हो (राज) ।

मुत्थ वि [मुस्त] मोथा, नागरमोथा (गउड) । त्री. ० त्या (संघोष ४४; कुमा) ।

मुदंग देखो मुअग (ठा ७—पत्र ३८२) ।

मुदा त्री [मुद] हर्ष, खुशी । ० गर वि [० दर] हर्षजनक (सूत्र १, ६, ६) ।

मुदुग पुं [दे] आह-विशेष, जल-जन्तु की एक जाति (जीव १ टी—पत्र ३६) ।

मुदुसक [मुदुय] १ मोहर लगाना । २ बन्द करना । ३ अंकन करना । मुदेह (धम्म ११ टी) ।

मुदुंग पुं [दे] १ उत्सव । २ सम्मान (?) (स. ४६३; ४६४) ।

मुदुग पुं [मुद्रिका] अंगूठी (उवा); 'लद्धो मुदुय' मह! तुमे कि अह अंगुलिमुदुयओ एतो' (पजम ५३, २४) ।

मुदुा त्री [मुद्रा] १ मोहर, छाप (सुपा ३२१; वजा १५६) । १ अंगूठी (उवा) । ३ अंग-विन्यास-विशेष (चैत्य १४) ।

मुदिअ वि [मुद्रित] १ जिस पर मोहर लगाई गई हो वह । २ बंद किया हुआ (एगाया १, २—पत्र ८६; ठा ३, १—पत्र १२३; कप्प; सुपा १४४; कुप्र ३१) ।

मुदिअ ० } त्री [मुद्रिका] अंगूठी (पएह १, मुदिआ } ४; कप्प; श्रौप; तंडु २६) । ० वंघ पुं [० वन्घ] ग्रन्थि-वन्घ, वन्घ-विशेष (श्रोष ४०२; ४०५) ।

मुदिआ त्री [मुद्रीका] १ द्राक्षा की लता (पएण १—पत्र ३३) । २ द्राक्षा, दाख (ठा ४, ३—पत्र २३६; उत ३४, १५; पव १५५) ।

मुदी त्री [दे] चुम्बन (दे ६, १३३) ।

मुदुदुय देखो मुदुग (पएण १—पत्र ४८) ।

मुदु देखो मुंड (श्रौप; कप्प; श्रोषमा १६; कुमा) । ० न्न वि [० न्य] १ मस्तक में उत्पन्न । २ मस्तक-स्य, अग्रेसर । ३ मूर्धस्थानीय रकार आदि वणं (कुमा) । ० य पुं [० ज] केश, बाल (पएह १, ३—पत्र ५४) । ० शूल न [० शूल] मस्तक-पीड़ा, रोग-विशेष (एगाया १, १३) ।

मुदु वि [मुग्घ] १ मूठ, मोह-युक्त । २ सुन्दर, मनोहर, मोह-जनक (हे २, ७७; प्राप्र; कुमा; विपा १, ७—पत्र ७७) ।

मुदुा त्री [मुग्धा] मुग्धा त्री, नायिका का एक भेद, काम-चेष्टा-रहित अंकुरित यौवना (कुमा) ।

मुदुा (अप) देखो मुहा (कुमा) ।

मुदुाग देखो मुंड (उवा; कप्प; पि ४०२) ।

मुदुअ पुं [दे] घर के ऊपर का तिर्यक् काष्ठ, गुजराती में 'मोन' (दे ६, १३३) । देखो मोदुअ ।

मुमुकखु वि [मुमुकु] मुक्त होने की चाह-वाला (सम्मत १४०) ।

मुमुमुइ } वि [मुक्कमूक] १ अत्यन्त मूक । मुमुमुय } २ अव्यक्तभाषी (सूत्र १, १२, ५; राज) ।

मुमुमुर सक [चूर्णय] चूरना, चूर्ण करना । मुमुमुरइ (प्राक् ७५) ।

मुमुमुर पुं [दे] करीप, गोइंठा (दे ६, १४७) ।

मुमुमुर पुं [दे. मुमु र] १ करीपाग्नि, गोइंठा की आग (दे ६, १४७; जी: ६) । २ तुपाग्नि (सुर ३, १८७) । ३ भस्म-च्छदत अग्नि, भस्म-मिश्रित अग्नि-कण (उप ६४८ टी; जी ६; जीव १) ।

मुमुमुदी त्री [मुमुमुदी] मनुष्य की दश दशाओं में नववीं दशा—८० से ९० वर्ष

तक की अवस्था (ठा १०—पत्र ५१६; तंडु १६) ।

मुर अक [लड्] १ विलास करना । २ सक, उत्पीड़न करना । ३ जीन चलाना । ४ उपशेष करना । ५ व्याप्त करना । ६ बोलना । ७ फेंकना । मुरइ (प्राक् ७३) ।

मुर अक [स्फुट्] खोलना । मुरइ (हे ४, ११४; पड्) ।

मुर पुं [मुर] दैत्य-विशेष । ० रिड पुं [रिपु] श्रोक्ण (ती ३) । ० वैरिय पुं [० वैरिन्] वही अयं (कुमा) । ० िरि पुं [० िरि] वही अयं (वजा १५४) ।

मुरइ त्री [दे] असती, कुलटा (दे ६, १३५) ।

मुरज पुं [मुरज] मृदंग, वाद्य-विशेष (कप्प; मुरय } पात्र; गा २५३; सुपा ३६३; अंत; धर्मवि ११२; कुप्र २८८; श्रौप; उप पृ २३६) । देखो मुरय ।

मुरल पुं.व. [मुरल] एक भारतीय दक्षिण देश, केरल देश; 'विअर.ए विद्वा नुए मुरला' (गा ८७६) ।

मुरय देखो मुरय (श्रौप, उप पृ २३६) । २ अंग-विशेष, गल-अरिष्टका (श्रौप) ।

मुरवि त्री [दे. मुरजिन्] आभरण-विशेष (श्रौप) ।

मुरिअ वि [स्फुटित] खोला हुआ (कुमा) ।

मुरिअ वि [दे] १ वृद्धि, ह्वा हुआ (दे ६, १३५) । २ मुड़ा हुआ, बक्र बना हुआ (सुपा ५४७) ।

मुरिअ पुं [मौर्य] १ प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश (उप २११ टी) । २ मौर्य वंश में उत्पन्न; 'रायगिहे मू(?) मु)रियवलमहे' (त्रिते २३५७) ।

मुरुंड पुं [मुरुण्ड] १ अनार्य देश-विशेष (इक; पव २७४) । २ पादलिप्तसूरि के समय का एक राजा (पिंड ४६४; ४६८) । ३ पुं.त्री. मुहण्ड देश का निवासी मनुष्य (पएह १, १—पत्र १४) । त्री. ० डी (इक) ।

मुरुकि त्री [दे] पकात-विशेष (सण) ।

मुरुक्ख देखो मुक्ख = मूर्ख (हे २, ११२; कुमा; सुपा ६११; प्राक् ६७) ।

मुरुमुंड पुं [दे] चूट, केशों की लट (दे ६, ११७) ।

सुसुरिअ न [दे] रणरणक, उत्सुकता (दे ६, १३६; पात्र)।

सुसुर देखो सुसुरल (पड)।

सुसुरिअ पुं [दे] स्फुल्लिग, अग्नि-कण (दे ६, १३५)।

सुसुर (अप) देखो मुं च। सुसुर (प्राक ११२)।

सुसुर पुं [मूल्य] कीमत; 'को सुसुरो' सुसुरिअ (उवा १५२; श्रौप; पात्र; कुमा; प्रवो ७७)।

सुसुर (अप) देखो सुअ = मुच। सुसुर (भवि)।

सुसुरह देखो उव्वह = उद + वह। सुसुरह (हे २, १४७)।

सुसुर सक [मुप] चोरो करना। सुसुर (हे ४, २३६; सार्ध ६२)। भवि, सुसुरिअ (धर्मवि ४)। कर्म, सुसुरिअमो (पि ४५५)। वक्र, सुसुरंत (महा)। क्वक, सुसुरिअंत, सुसुरिअमाण (सुपा ४५०; कुप्र २४७)। संक, सुसुरिअण (स ६६३)।

सुसुरिअ देखो सुसुरिअ (सम १३७; पणह १, १—पत्र ८; उक्त ३६, १००; पणह १—पत्र ३५)।

सुसुरण न [मोपण] चोरो (सार्ध ६०; धर्मवि ५६)।

सुसुरल पुं [सुसुरल] १ सुसुरल या सुसुर, एक प्रकार की मोटी लकड़ी जिससे चावल आदि अन्न कूटे जाते हैं (श्रौप; उवा; पड; हे १, ११३)। २ मान-विशेष (सम ६८)। ३ धर पुं [धर] बलदेव (कुमा)। ४ उह पुं [अधुव] बलदेव (पात्र)।

सुसुरल वि [दे] मांवल, पुट (पड)।

सुसुरलि पुं [सुसुरलिन्] बलदेव (दे १, ११८; सण)।

सुसुरलो देखो मोसुरी (श्रौवना १६१)।

सुसुरह न [दे] मन की आकुलता (दे ६, १३४)।

सुसा अ. स्त्री [सृपा] मिय्या, अनृत, कूठ, असत्य भाषण (उवा; पड; हे १, १३६; कच); 'अपायंता सुसं वए' (सूत्र १, १, ३, ८; उव)। २ वाद देखो वाय (सूत्र १, ३, ४, ८)। ३ वादि वि [वादिन्] कूठ बोलनेवाला (पणह १, २; आचा २, ४, १,

८)। ४ वाय पुं [वाद] कूठ बोलना, असत्य भाषण (सम १०; भग; कस)।

सुसाविअ वि [मोपित] चुराया हुआ, चोरी कराया हुआ (श्रौप २६० टी)।

सुसुरिअ वि [मुपित] चुराया हुआ (सुपा २२०)।

सुसुरिअ पुं स्त्री [दे] १ प्रहरण-विशेष, शत्रु-विशेष (श्रौप)। २ वनस्पति-विशेष (उक्त ३६, १००, सुसुर ३६, १००)।

सुसुरिअ सक [भञ्ज] मांगना, तोड़ना। सुसुरिअ (हे ४, १०६)। हेक, 'तेसि च केसमवि सुसुरिअ सुसुरिअ रिउमसमत्वो' (सम्मत् १२३)।

सुसुरिअण न [भञ्जन] तोड़ना, खण्डन (सम्मत् १८७)।

सुसुरिअविअ वि [भञ्जित] भंगाया हुआ (सम्मत् ३०)।

सुसुरिअ वि [भग्न] भागा हुआ (पात्र; कुमा; सण)।

सुह देखो मुसक; 'इय मा मुहसु मणेण' (जीवा १०)। संक, मुहिअ (पिण)। क्वक, मुहिअंत (से ११; १००)।

सुह न [सुख] १ सुह, वदन (पात्र; हे ३, १३४; कुमा; प्राप् १६)। २ अत्र नाम (सुज ४)। ३ उपाय (उक्त २५, १६; सुज २५, १६)। ४ द्वार, दरवाजा। ५ आरम्भ। ६ नाटक आदि का सन्धि-विशेष। ७ नाटक आदि का शब्द-विशेष। ८ आद्य, प्रथम। ९ प्रधान, मुख्य। १० शब्द, आवाज। ११ नाटक। १२ वेद-शास्त्र (प्राप्र; हे १, १८७)। १३ प्रवेश (निद्र ११)। १४ पुं, वृद्ध-विशेष, वडहल का गाय (सुज १०, ८)। १५ अंतग, अंततय न [अन्तक] मुख-वक्रिका (श्रौधमा १५८; पव २)। १६ तूर्य न [तूर्य] मुह से उजाया जाता वाद्य (भग)। १७ वीणाया स्त्री [वाचनिका] मुह से बोलने की सामग्री, दंतवन आदि; 'मुहधोवणियं खिपं उवणमेहि' (उप ६४८ टी)। १८ पत्नी स्त्री [पत्नी] मुख-वक्रिका (उवा; श्रौध ६६६; द्र ५८)। १९ पुत्तिया, पोत्तिया, पोत्ती स्त्री [पोत्तिका] मुख-वक्रिका, बोलते समय मुह के आगे रखने का बल-खण्ड (संवाप ५; विपा १, १; पव

१२७)। २० फुल्ल न [फुल्ल] १ वडहल का फूल। २ चित्रा-नक्षत्र का संस्थान (सुज १०, ८)। २१ मंडप न [भाण्डक] मुखाभरण (श्रौप)। २२ मंगलिय, मंगलीय वि [मंगलिक] मुह से पर-प्रशंसा करनेवाला, खुशामती (कम्प; श्रौप; सूत्र १, ७, २५)। २३ मकडा, मकडिया स्त्री [मकडा, टिक] गला पकड़ कर मुह को मोड़ना, मुख-वक्रिकरण (सुर १२, ६७; गारा १, ८—पत्र १४४)। २४ वंत वि [वन्त] मुहवाला (भवि)। २५ वड पुं [पट] मुह के आगे रखने का वक्र (से २, २२; १३, ५६)। २६ वडण न [पतन] मुह से गिरना (दे ६, १३६)। २७ वण पुं [वण] प्रशंसा, खुशामती (निद्र ११)। २८ वास पुं [वास] भोजन के अनन्तर खाया जाता पान, चूर्ण आदि मुह को सुगन्धी बनानेवाला पदार्थ (उवा ४२; उर ८, ५)। २९ वीणिया स्त्री [वीणिका] मुह से विकृत शब्द करना, मुह से वाद्य का शब्द करना (निद्र ५)। मुहड देखो मुहल। ३० सय न [शाय] एक नगर (ती १५)।

मुह देखो मुहल = मुखर (सुपा २२८)।

मुहरिय वि [मुखरित] वाचाल बना हुआ, आवाज करता (सुर ३, ५४)।

मुहरोमराइ स्त्री [दे] भ्रू, भौं (दे ६, १३६; पड; १७३)।

मुहल न [दे] मुख, मुह (दे ६, १३४; पड)।

मुहल वि [मुखर] १ वाचाट, कक्कादी (गा ५७८; सुर ३, १८; सुपा ४)। २ पुं, काक, कौआ। ३ शंख (हे १, २५४; प्राप्र)। ४ रव पुं [रव] तुमुल, कोलाहल (पात्र)।

मुहा अ. स्त्री [मुहा] व्यर्थ, निरर्थक (पात्र; सुर ३, १; धर्मसं ११३२; आ २८; प्राप् ६)। 'मुहाइ हारिंति अप्पाणं' (संवाप ४६)। ५ जीवि वि [जीविन्] भिक्षा पर निर्वाह करनेवाला (उक्त २५, २८)।

मुहिअ न [दे] मुफत, बिना मूल्य; मुफत में करना (दे ६, १३४)।

मुहिआ स्त्री [दे, मुधिआ] ऊपर देखो (दे ६, १३४; कुमा; पात्र); 'ति सव्वेवि हु कुमरस्स

तस्त मुहियाइ सेवगा जाया' (सिरि ४५७);  
'निएसासणंपि कहमवि लद्धु' हारेसि मुहियाए'  
(सुपा १२४); 'मुह(? हि) याइ गिएह लक्ख'  
(कुप्र २३७)।

सुहु } अ [मुहुस्] वार वार (प्रासू २६;  
सुहुं } हे ४, ४४४; पि १८१)।

सुहुत्त } पुंन [मुहुत्त] दो घड़ी का काल,  
सुहुत्ताग } अड़तालीस मिनट का समय (ठा  
२, ४; हे २, ३०; औप; भग; कप्प; प्रासू  
१०५; इक; स्वप्न ६४; आचा; ओघ ५२१)।

सुहुसुह देखो महुसुह (पात्र)।

सुहुल देखो सुहल = मुखर (पात्र)।

सुहुल्ल देखो सुह = मुख (हे २, १६४; पड;  
भवि)।

मूअ देखो मुक्क = मूक (हे २, ६६; आचा;  
गठड; विपा १, १)।

मूअ देखो मुअ = मृत; 'लजाइ कह ए मूओ  
सेवंतो गामवाहलिय' (वजा ५४)।

मूअल } वि [दे. मूक] मूक, वाक्-शक्ति  
मूअल्ल } से होन (दे ६; १३७; सुर ११,  
१५४)।

मूअल्लइअ } वि [दे. मूकायित] मूक बना  
मूअल्लिअ } हुआ (से ५, ४१; गठड;  
पि ५६५)।

मूइंगलिया } देखो मुइंगलिया (उप १३४  
मूइंगा } टी; ओघ ५५८)।

मूइल्लअ } वि [मृत] मरा हुआ;  
मूयल्लिअ }

'एरिहं वारेइ जणो तइआ

मूइल्लयो, कहि व गयो।

जाहे विसं व जाअं

सव्वंगपहोलिरं पेम्मं

(गा ६६६ अ)।

मूड } पुं [दे] अन्न का एक दीर्घ परिमाण;  
मूडे } 'इगमूडलक्खसमहियमवि घनं अत्थि  
वायगिहे' (सुपा ४२७); 'तो तेहि वाडिओ  
सो गाढं कएमूडउव्व लउडेहि' (धर्मवि  
१४०)।

मूड वि [मूड] मूल, मुग्ध (प्राप्र; कस; पउम  
१, २८; महा; प्रासू ३६)। 'नइय न  
[नयिक] श्रुत-विशेष, शास्त्र-विशेष  
(आचम)। 'विसुइया ली [विसुचिका]  
रोम-विशेष (सुपा १३)।

मूण न [मौन] चुप्पी (स ४७७; परह २,  
४—पत्र १३१)।

मूयग पुं [दे. मूयक] मेवाड़ देश में प्रसिद्ध  
एक प्रकार का वृष (परह २, ३—पत्र  
१२३)।

मूर सक [भञ्ज] भोगना, तोड़ना। मूरड  
(हे ४, १०६)। नूका. मूरोअ (कुमा)।

मूरग वि [भञ्जक] भोगनेवाला, चरनेवाला  
(परह १, ४—पत्र ७२)।

मूल न [मूल] १ जड़ (ठा ६; गउड; कुमा;  
गा २३२)। २ निवन्धन, कारण (परह १,  
३—पत्र ४२)। ३ आदि, आरम्भ (परह  
२, ४)। ४ आद्य कारण (आचानि १, २,  
१—गाथा १७३; १०४)। ५ समीप, पास,  
निकट (ओघ ३८४; सुर १०, ६)। ६ नक्षत्र-  
विशेष (सुर १०, २२३)। ७ ब्रतों का पुनः  
स्थापन (औप; पंचा १६, २१)। ८ पिप्पली-  
मूल (आचानि १, २, १)। ९ वशीकरण  
आदि के लिए किया जाता ओपवि-प्रयोग,  
'अमंतमूलं वशीकरणं' (प्रासू १४)। १०  
आद्य, प्रथम, पहला। ११ मुख्य (संवोध ३;  
आचम; सुपा ३६४)। १२ मूलघन, पुंजी  
(उत्त ७, १४; १५)। १३ चरण, पैर। १४  
सूरण, कन्द-विशेष, शूल। १५ टीका आदि  
से व्याख्येय ग्रन्थ (संक्षि २१)। १६ प्रायश्चित्त-  
विशेष (विसे १२४६)। १७ पुंन. कन्द-  
विशेष, मूली (अनु ६; आ २०)। 'छेज्ज  
वि [छेज्ज] मूल नामक प्रायश्चित्त से नाश-  
योग्य (विसे १२४६)। 'दत्ता ली [दत्ता]  
कृष्ण-पुत्र शाम्ब की एक पत्नी (अंत १५)।  
'देव पुं [देव]. व्यक्ति-वाचक नाम; (महा;  
सुपा ५२६)। 'देवी ली [देवी] लिपि-  
विशेष (विसे ४६४ टी)। 'नायग पुं  
[नायक] मन्दिर की अनेक प्रतिमाओं में  
मुख्य प्रतिमा (संवोध ३)। 'प्पाडि वि  
[उत्पाटिन्] मूल को खड़ा करनेवाला (संक्षि  
२१)। 'विंवि न [विंवि] मुख्य प्रतिमा  
(संवोध ३)। 'राय पुं [राज] गुजरात  
का चौकुम्भ-वंशीय एक प्रसिद्ध राजा (कुप्र  
४)। 'वंत वि [वंत] मूलवाला (औप;  
गाथा १, १)। 'सिरि ली [श्री] शाम्ब-  
कुमार की एक पत्नी (अंत १५)।

मूलग } न [मूलक] १ कन्द-विशेष, मूली,  
मूलय } मूरई (परण १; जी १३)। २  
शाक-विशेष (पव १५४; कुमा)।

मूलगत्तिआ ली [मूलगतिका] मूले—मूली  
की पतली फांक (दस ५, २, २३)।

मूलवेलि ली [दे. मूलवेलि] घर के छप्पर  
का आवार-भूत-स्तम्भ-विशेष (आचा २, २,  
३, १ टी; पव १३३)।

मूलिगा ली [मूलिका] ओपवि-विशेष (उप  
६०३)।

मूलिय न [मौलिक] मूलघन, पुंजी (उत्त ७,  
१६; २१)।

मूलिल्ल वि [मूल, मौलिक] प्रवान, मुख्य-  
'मूलिल्लवाहणे' (सिरि ४२३)।

मूलिल्ल वि [मूलवत्] मूलघनवाला, पुंजी-  
वाला; 'अत्थि य देवदत्ताए गाढाणुरत्तो  
मूलिल्लो मित्तसेणो अयलनामा सद्यवाहपुत्तो'  
(महा)।

मूली ली [मूली] ओपवि-विशेष, वशीकरण  
आदि के कार्य में लगती ओपवि (महा)।

मूस देखो मुस = मुप। मूसइ (संक्षि ३६)।

मूसग } पुं [मूपक, मूपिक] मूसा, चूहा  
मूसय } (उप; सुर १, १८; हे १, ८८;  
पड; कुमा)।

मूसरि वि [दे] भग्न, नांगा हुआ (दे ६,  
१३७)।

मूसल वि [दे] उपचित (दे ६, १३७)।

मूसल देखो मुसल = मुसल (हे १, ११३;  
कुमा)।

मूसा देखो मुसा (हे १, १३६)।

मूसा ली [मूसा] मूस, धातु गालने—गलाने का  
पात्र (कप्प; आरा १००; सुर १३, १८०)।

मूसा ली [दे] लघु द्वार, छोटा दरवाजा (दे  
६, १३७)।

मूसाअ न [दे] ऊपर देखो (दे ६, १३७)।

मूसिय देखो मूसय (आचा)। 'रि पुं  
[रि] मार्जार, बिल्ला (आचा)।

मेअ [मे] १ मेरा। २ मुक्ते (स्वप्न १५;  
ठा १)।

मेअ पुं [मेद] १ अनायं देश-विशेष (इक)।  
२ एक अनायं मनुष्य-जाति (परह १, १—  
पत्र १४)। ३ पुं. ली. चाण्डाल (सम्मत्त  
१७२)। ली. मेई (सम्मत्त १७२)।

मेअ वि [मेय] १ जानने योग्य, प्रमेय, पदार्थ, वस्तु (उत्त १८; २३)। २ नापने योग्य (पड्)। ३ वि [०] पदार्थ-ज्ञाता (उत्त १८, २३; सुख १८, २३)।

मेअ पुंन [मेदस्] शरीर-स्थित वातु-विशेष, चर्वी (तंडु ३८; एयाया १, १२—पत्र १७३; गजड)।

मेअज्ज न [दे] धान्य, अन्न (दे ६, १३८)।

मेअज्ज पुं [मेदार्य] मेदार्य गोत्र में उत्पन्न (सूत्र २, ७, ५)।

मेअज्ज पुं [मेतार्य] १ भगवान् महावीर का दसवाँ गणधर (सम १९)। २ एक जैन महर्षि (उव; सुपा ४०२; विवे ४३)।

मेअय वि [मेचक] काला, कृष्ण-वर्ण (गजड ३३६)।

मेअर वि [दे] असहन, असहिष्णु (दे ६, १३८)।

मेअल पुं [मेकल] पर्वत-विशेष। १ कजा की [०कन्या] नर्मदा नदी (पात्र)।

मेअयाडय पुंन [मेदपाटक] एक भारतीय देश, मेवाड़; 'शाव दाहविभ्रं सप्रलपि मेम-वाडयं हम्मीखीरेहि' (हम्मीर २७)।

मेइणि १ स्त्री [मेदिनी] १ पृथिवी, धरती मेइणी १ (सुपा ३२; कुमा; प्रासू ५२)। २ चाण्डालिन (सुपा १६; सन्मत्त १७२)। ३ 'नाह पुं [०नाथ] राजा (उप पृ १८६; सुपा १०८)। ४ 'पइ पुं [०पति] १ राजा। २ चाण्डाल; 'जो विवुइयणयचरणोवि गोत्तमेइं न; मेइणिएर्षीव न हु मायंगो' (सुपा ३२)। ३ 'सामि पुं [०स्वामिन] राजा (उप ७२८ टी)।

मेइणीसर पुं [मेदनीइवर] राजा (उप ७२८ टी)।

मेठ पुं [दे] हस्तिपक, महावत (दे ६, १३८)। देखो मिठ।

मेठी स्त्री [दे] मेठी, मेपी गड़रिया (दे ६, १३८)।

मेठ पुं स्त्री [मेठ] मेठा, मेप, भेड़, गाड़र (ठा ४; २)। स्त्री. ०ठी (दे ६, १३८)। ३ 'मुह पुं [०मुख] १ एक अन्तर्द्वार। २ अन्तर्द्वार-विशेष में रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४, २—पत्र २२६; इक)। ३ 'विसाणा स्त्री

[०विप्राणा] वनस्पति-विशेष, मेठाशिमी (ठा ४, १—पत्र १८५)। देखो मिठ।

मेखला देखो मेहला (राज)।

मेज्ज न [मेय] मान, तौल, वाट, बटखरा, जिससे मापा जाय वह (अणु १५४)।

मेय देखो मेह (कुमा; सुपा २०१)। ३ 'मालिणी स्त्री [०मालिनी] नन्दन वन के शिखर पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७)। ४ 'वई स्त्री [०वती] एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७)। ५ 'वाहण पुं [०वाहन] एक विद्याधर राज-कुमार (पउम ५, ६५)।

मेघंकरा स्त्री [मेघङ्करा] एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७)।

मेच्छ देखो मिच्छ = म्लेच्छ (श्लोच २४; श्रौप; उप ७२८ टी; मुद्रा २६७)।

मेज्ज देखो मेअ = मेय (पड्; एयाय १, ८—पत्र १३२; था १८)।

मेज्ज देखो मिज्ज (महा ४, ११; ४०, २४)।

मेट देखो मिट। प्रयो. मेटाव (पिंग)।

मेडंभ पुं [दे] मृग-तन्तु (दे ६, १३९)।

मेडय पुं [दे] मजला, तला, गुजराती में 'मेडो'; 'तस्स य सयणट्टाणं संचारिमकट्टमेड-यस्सुवरि' (सुपा ३५१)।

मेड्ढ देखो मेंड (उप पृ २२४)।

मेठ पुं [दे] वणिक-सहाय, वणिक को मदद करनेवाला (दे ६, १३८)।

मेठक पुं [दे] काष्ठ-विशेष, काष्ठ का छोटा डंडा (परह १, १—पत्र ८)।

मेठि पुं [मेथि] पशुवधन-काष्ठ; खले के बीच का काष्ठ, जहाँ पशु को बाँध कर धान्य-मर्दन किया जाता है (हे १, २१५; गच्छ १, ८; एयाया १, १—पत्र ११)। २ आघार, स्तम्भ; 'सयस्स वि य एं कुट्टवस्स मेठी पमाणं आहारं आलं वणं चक्खु मेठीभूए' (उवा); 'सुत्तव्यविकु लक्खणजुत्तो गच्छस्स मेठीभूओ अ' (था १; कुप्र २६९; संवोव २४)। ३ 'भूअ वि [०भूत] १ आघार-सदृश, आघार-भूत (मग)। २ नाभि-भूत, मध्य में स्थित (कुमा)।

मेणआ स्त्री [मेनका] १ हिमालय की पत्नी मेणका १ २ स्वर्ग की एक वेश्या (अभि ४२; नाट—विक्र ४७; पिंग)।

मेत्त न [मात्र] १ साकल्प, संपूर्णता। २ अवधारण; 'भोग्गमेत्तं' (हे १, ८१)।

मेत्तल [दे] देखो मित्तल (सुर १२, १५२)।

मेत्ती स्त्री [मेत्ती] मित्रता, दोस्ती (से १, ९; गा २७२; स ७१६; उव)।

मेधुणिया देखो मेहुणिया (निचू १)।

मेर (अप) वि [मदीय] मेरा (प्राक १२०; भवि)।

मेरग पुं [मेरक, मैरेयक] १ तृतीय प्रति-वासुदेव राजा (पउम ५, १५६)। २ पुंन. मय-विशेष (उवा; विपा १, २—पत्र २७)। ३ वनस्पति का त्वचा-रहित टुकड़ा; 'उच्छु-मेरंगं' (प्राचा २, १, ८; १०)।

मेरा स्त्री [दे. मिरा] मर्यादा (दे ६, ११३; पात्र; कुप्र ३३५; अज्ज ६७; सण; हे १, ८७; कुमा; श्रौप)।

मेरा स्त्री [मेरा] १ तुण-विशेष, मुञ्ज की सलाई (परह २, ३—पत्र १२३)। २ दशवें चक्रवर्ती की माता (सम १५२)।

मेरु पुं [मेरु] १ पर्वत-विशेष (उव; प्रासू १५४)। २ छन्द-विशेष (पिंग)।

मेरु पुं [मेरु] पर्वत, कोई भी पहाड़ (प्राचा २, १०, २)।

मेल सक [मेलय] १ मिलाना। २ इकट्ठा करना। मेलइ, मेलंति (भवि; पि ४८६)। संक. मेलित्ता, मेलिय (पि ४८६; महा)।

मेल पुं [मेल] मेल, निलाप, संगम, संयोग, मिलन (सूत्रनि १५; दे ६, ५२; सार्धं १०६), 'दिट्ठो पियमेलगो मए सुविणो' (कुप्र २१०)।

मेलण न [मेलन] ऊपर देखो (प्रासू ३५)।

मेलय पुं [मेलक] १ संवन्व, संयोग (कुमा)। २ मेला, जन-समूह का एकत्रित होना (दे ७, ८९; वि ८६)।

मेलय सक [मेलय, मिश्रय] मिलाना, मिश्रण करना। मेलवइ (हे ४, २८)। भवि. मेलवेहिंसि (पि ५२२)। संक. मेलवि (अप) (हे ४, ४२९)।

मेलाइयव्व नीचे देखो।

मेलाय अक [मिल्] एकत्रित होना; 'पडि-  
निखमिता एगप्रो मेलायति' (भग)। संक.  
मेलायित्ता (भग)। क. मेलायिव्व (शोधभा  
२२ टी)।

मेलाय देखो मेलय। मेलायवइ (भवि)।

मेलाय पुंन [मेल] १ मिलाप, संगम, मिलन  
(सुपा ४६६); 'निच्चं चिय मेलायं सुमग्ग-  
निरयाण अइदुलहं' (सट्टि १४३)।

मेलायवग देखो मेलय (आत्महि १६)।

मेलायवड (अप) देखो मेलय; 'मणवल्लहमेल-  
वडउ पुत्तिहि लभइ एहु' (सिरि ७३)।

मेलायय देखो मेलायवग (सुपा ३६१; भवि)।

मेलायविअ वि [मेलित्त] मिलाया हुआ, इकट्ठा  
क्रिया हुआ (से १०, २८)।

मेलिअ वि [मिलित्त] मिला हुआ (ठा ३,  
१ टी—पत्र ११६; महा; उव);

'एवं सुलीलवंतो असीलवंतेहि मेलिअो संतो।  
पावेइ गुणपरिहाणी मेलणदोसाणुसंगेण'  
(प्रासू ३५)।

मेली वी [दे] संकति, जन-समूह का एकत्रित  
होना, मेला (दे ६, १३८)।

मेलीण देखो मिलीण (पउम २, ६); 'अण्णो-  
एणकडक्खंतरपेसिअमेलीणदिट्ठिपसरइ' (गा  
६६६; ७०२ अ)।

मेल्ल देखो मिल्। मेल्लइ (हे ४, ६१), मेल्लेमि  
(कुप्र १६)। वक. मेह्लंत (महा)। संक.  
मेह्लाय, मेह्लेपिणु (अप) (हे ४, ३५३;  
पि ५८८)। क. मेह्लियव्व (उप ५५५)।

मेल्लण न [मोचन] छोड़ना, परित्याग (प्रासू  
१०२)।

मेल्लायि वि [मोचित्त] छुड़वाया हुआ (सुर  
८, ६८; महा)।

मेव देखो एव (पि ३३६)।

मेवाड } देखो मेअवाडय (ती १५; मोह  
मेवाड } ८८)।

मेस पुं [मेप] १ मेंडा, भेड़, गाड़र (सुर ३,  
५३)। २ राशि-विशेष (विचार १०६; सुर  
३, ५३)।

मेह पुं [मेव] १ अन्न, जलघर (श्रौप)। २  
कालागुह, सुगंधी घूप-द्रव्य-विशेष (से ६,  
४६)। ३ भगवान् सुमतिनाथ का पिता (सम  
१५०)। ४ एक जैन महर्षि (अंत १८)। ५

राजा श्रेणिक का एक पुत्र (गाया १, १—  
पत्र ३७)। ६ एक देव-विमान (देवेन्द्र  
१३२)। ७ छन्द-विशेष (पिंग)। ८ एक  
वणिक-पुत्र (सुपा ६१७)। ९ एक जैनमुनि  
(कप्प)। १० देव-विशेष (राज)। ११ मुस्तक,  
श्रौपधि-विशेष, मोया। १२ एक राजसूत।  
१३ राग-विशेष (प्राप्र; हे १, १८०)। १४  
एक विद्याघर-नगर (इक)। 'कुमार पु'  
[कुमार] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (गाया  
१, १; उव)। 'उम्भाण पु' [उम्भान] राजस-  
वंश का एक राजा, एक लंकापति (पउम ५,  
२६६)। 'णाअ पुं [नाद] रावण का एक  
पुत्र (से १३, ६८)। 'पुर न [पुर]  
वैताव्य पर्वत के दक्षिण श्रेणी का एक नगर  
(पउम ६, २)। 'सुह पुं [मुख] १ देव-  
विशेष (राज)। २ एक अन्तर्द्वीप। ३ अन्त-  
र्द्वीप-विशेष का निवासी मनुष्य (ठा ४, २—  
पत्र २२६; इक)। 'रव न [रव] विन्ध्य-  
स्यली का एक जैन तीर्थ (पउम ७७, ६१)।  
'वाहण पुं [वाहन] १ राजस-वंश का  
आदि पुत्र, जो लंका का राजा था (पउम  
५, २५१)। २ रावण का एक पुत्र  
(पउम ८, ६४)। 'सीह पुं [सिंह]  
विद्याघर-वंश का एक राजा (पउम ५, ४३)।  
देखो मेघ।

मेह पुं [मेह] १ तेचन (सूत्र १, ४, २,  
१२)। २ रोग-विशेष, प्रमेह (आ २०; सुख  
१, १५)।

मेहंकरा देखो मेघंकरा (इक)।

मेहच्छीर न [दे] जल, पानी (दे ६, १३६)।

मेहण न [मेहन] १ करन, टपकना। २  
प्रलवण, मूत्र; 'महुमेहणं (आचा १, ६,  
१, २)। ३ पुत्र्य-लिंग (राज)।

मेहणि वि [मेहनिन्] भरनेवाला (आचा)।

मेहर पुं [दे] ग्राम-प्रवर, गाँव का मुखिया  
(दे ६, १२१; सुर १५, १६८)।

मेहरि पुं वी [दे] काष्ठ-कोट, घुन (जी १५)।

मेहरिया } वी [दे] गानेवाली वी (सुपा  
मेहरी } ३६४)।

मेहलय पुं व. [मेखलक] देश-विशेष (पउम  
६८, ६६)।

मेहला वी [मेखला] काठची, करपनी  
(प्राप्र; पएह १, ४; श्रौप; गा ४६३)।

मेहलिजिया वी [मेखलिया] एक जैन  
मुनि-शाला (कप्प)।

मेहा वी [मेघा] एक इंद्राणी, चमरेन्द्र की  
एक अग्र-महिषी (ठा ५, १—पत्र ३०२;  
इक)।

मेहा वी [मेघा] बुद्धि, मनीषा, प्रज्ञा (सम  
१२५; से १, १६; हास्य १२५)। 'अर वि  
[अर] १ बुद्धि-वर्धक। २ पुं. छन्द-विशेष  
(पिंग)।

मेहा वी [मेघा] अग्रग्रह-ज्ञान (एदि १७४)।

मेहावई देखो मेघ-वई (इक)।

मेहावण न [मेघावण] एक विद्याघर-  
नगर (इक)।

मेहावि वि [मेघाविन्] बुद्धिमान्, प्राज्ञ  
(ठा ५, ३; गाया १, १; आचा; कप्प;  
श्रौप; उप १४२ टी; कुप्र १४०; घर्मवि  
६८)। वी. 'णी (नाद—शकु ११६)।

मेहि देखो मेडि (से ६, ४२)।

मेहि वि [मेहिन्] प्रलवण करनेवाला,  
'महुमेहिणं' (आचा)।

मेहिय न [मेधिक] एक जैन मुनि-कुल  
(कप्प)।

मेहिल पुं [मेधिल] भगवान् पारवनाय के  
वंश का एक जैन मुनि (भग)।

मेहुण } न [मेथुण] रति-क्रिया, संभोग  
मेहुणय } (सम १८; पएह १, ४; उवा;  
श्रौप; प्रासू १७६; महा)।

मेहुणय पुं [दे] फूफा का लड़का (दे ६,  
१४८)।

मेहुणिअ पुं [दे] मामा का लड़का (वृह ४)।

मेहुणिआ वी [दे] १ साली, भार्या की  
वहिन (दे ६, १४८)। २ मामा की लड़की  
(दे ६, १४८; वृह ४)।

मेहुन्न देखो मेहुण; 'हिसालियचोरिक्के मेहुन्न-  
परिगहे य निसिभत्ते' (शोध ७८७)।

मेरेअ न [मैरेय] मद्य-विशेष (माल १७७)।

मो अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय—१  
अवधारण, निश्चय (सूत्रनि ८६; श्रावक  
१२५)। २ पाद-पूर्ति (पउम १०२, ८६;  
घर्मसं ६४५; श्रावक ६०)।

मोअ सक [मुच्] छोड़ना, त्यागना ।  
 मोअइ (प्राक ७०; ११६) । वक्र. मोअंत  
 (स ८, ६१) ।  
 मोअ सक [मोचय्] छोड़वाना, त्याग  
 कराना । मोअइदि (शौ) (नाट—मालवि  
 ४१) । कवक. मोइज्जंत (गा ६७२) ।  
 मोअ पुं [मोद] हफ, बुशी (रयण १५;  
 महा ८ भवि) ।  
 मोअ वि [दे] १ अविगत । २ पुं. चिभंत  
 आदि का वीजकोश (दे ६, १४८) । ३ मूत्र,  
 पेशाव (सूत्र १, ४, २, १२; पिड ४६८;  
 कस; पमा १५) । ४ पडिमा ली [प्रतिमा]  
 प्रत्नवण-विपयक नियम-विशेष (ठा ४, २—  
 पत्र ६४; औप; वव ६) ।  
 मोअइ पुं [मोचकि] वृक्ष-विशेष; 'सल्लइ-  
 मोयइमालुयवट्ठनपलासे करंजे य' (परएण  
 १—पत्र ३१) ।  
 मोअग वि [मोचक] मुक्त करनेवाला (सम  
 १; पडि; सुपा २३४) ।  
 मोअग पुं [मोदक] लड्डू, मिश्रान्न-विशेष  
 (अंत ६; सुपा ४०६) । देखो मोदअ ।  
 मोअण न [मोचन] नीचे देखो (स ५७५;  
 गठड) ।  
 मोअणा ली [मोचना] १ परित्याग (श्रावक  
 ११५) । २ मुक्ति, छुटकारा (सूत्र १, १४,  
 १८) । ३ छोड़वाना, मुक्त कराना (उप  
 ५१०) ।  
 मोअय देखो मोअग (भग; पउम ११५, ६;  
 सुपा ४०६; नाट—विक २१) ।  
 मोआ ली [मोचा] कदली वृक्ष, केला का  
 गाछ (राज) ।  
 मोआव सक [मोचय्] छोड़वाना । मोआ-  
 वेमि, मोआवेहि (नाट—यकु २५; मूच्छ  
 ३१६) । भवि. मोआवइस्सिपि (पि ५२८) ।  
 कर्म, मोआविज्जइ (कुम २६१) । वक्र.  
 मोआवंत (सुपा १८६) ।  
 मोआवण न [मोचन] छुटकारा कराना  
 (सिरि ६१८; स ४७) ।  
 मोआविअ २ वि [मोचित] छोड़वाया हुआ  
 मोइअ (पि ५५२; नाट—मूच्छ ८६;  
 सुर १०, ६; सुपा ४७७; महा; सुर २,  
 ३६; ६, ७८; सुपा २३२; भवि) ।

मोइल पुं [दे] मत्स्य-विशेष (नाट) ।  
 मोइ देखो मुंड = मुण्ड (हे १, ११६;  
 २०२) ।  
 मोक पुं [मोक] सर्प-कंचुक, साँप का कंचुल ।  
 मोकल सक [दे] भेजना; गुजराती में  
 'मोकलबु', मराठी में 'मोकलण' । मोकल्लइ  
 (भवि) ।  
 मोक देखो मुक = मुक्त (पड) ।  
 मोकणिआ } ली [दे] कृष्ण कणिका, कमल  
 मोकणी } का काला मव्य भाग (दे ६,  
 १४०) ।  
 मोकल देखो मोकल; 'नियपियरं मणुसु  
 तुमं मोक्कलइ जेण सिग्घंपि' (सुपा ६१२) ।  
 मोकल देखो मुकल (सुपा ५८०; हे ४;  
 ३६६) ।  
 मोकलिय वि [दे] १ प्रेषित, भेजा हुआ  
 (सुपा ५२१) । २ विष्ट (सुपा १४०) ।  
 मोक्ख देखो मुक्ख = मोक्ष (औप; कुमा;  
 हे २, १७६; उप २६४ टी; भग; वसु) ।  
 मोक्ख देखो मुक्ख = मूख (उप ५५५) ।  
 मोक्ख न [दे] वनस्पति-विशेष (सूत्र २,  
 ७) ।  
 मोक्खण न [मोक्षण] मुक्ति, छुटकारा  
 (स ४१८; सुर २, १७) ।  
 मोग्गड पुं [दे] व्यन्तर-विशेष (सुपा ४०८) ।  
 देखो मुग्गड ।  
 मोग्गर पुं [दे] मुकुल, कलिका, वीर (दे ६,  
 १३६) ।  
 मोग्गर पुं [मुद्गर] मुगरा, मोगरी । २  
 कमरख का पेड़ (हे १, ११६; २, ७७) ।  
 ३ पुष्पवृक्ष-विशेष, मोगरा का गाछ (परएण  
 १—पत्र ३२) । ४ देखो मुग्गर । ५ पाणि  
 पुं [पाणि] एक जैन महर्षि (अंत १८) ।  
 मोग्गरिअ वि [दे] संकुचित, मुकुलित (दे  
 ६, १३६ टी) ।  
 मोग्गलायण } न [मौद्गलायन, 'ल्या']  
 मोग्गहायण } १ गोत्र-विशेष (इक; ठा ७;  
 सुज्ज १०, १६) । २ पुं. उस गोत्र में  
 उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) ।  
 मोग्गाह देखो मुग्गाह । मोग्गाहइ (?)  
 (वाल्वा १४६) ।

मोच देखो मोह = मोघ; 'मोवमणोरुह'  
 (परह १, ३—पत्र ५५) ।  
 मोच देखो मोअ = मोचय् । संक्र. मोचिअ;  
 (अभि ४७) ।  
 मोच न [दे] अर्धजंबी, एक प्रकार का जूत  
 (दे ६, १३६) ।  
 मोच देखो मोअ = (दे) (सूत्र १, ४, २,  
 १२) ।  
 मोचग देखो मोअग = मोचक (वसु) ।  
 मोट्टाय अक [रम्] लीड़ा करना । मोट्टायइ  
 (हे ४, १६८) ।  
 मोट्टाइअ न [रत्] रति-लीड़ा, रत, मैथुन  
 (कुमा) ।  
 मोट्टाइअ न [मोट्टायित] चेष्टा-विशेष, प्रिय-  
 कथा आदि में भावना से उत्पन्न चेष्टा (कुमा) ।  
 मोट्टिम न [दे] कलात्कार (पि २३७) ।  
 देखो मुट्टिम ।  
 मोड सक [मोटय्] १ मोड़ना, टेढ़ा  
 करना । २ भांगना । मोडसि (सुर ७, ६) ।  
 वक्र. मोडंत, मोडित, मोडयंत (भवि;  
 महा; स २५७) । कवक. मोडिज्जमाण  
 (उप पृ ३४) । संक्र. मोडेउं (सुपा १३८) ।  
 मोड पुं [दे] बूट, लट (दे ६, ११७) ।  
 मोडग वि [मोटक] मोड़नेवाला (परह १,  
 ४—पत्र ७२) ।  
 मोडण न [मोटन] मोड़ना, मोड़ना (वज्जा  
 ३८) ।  
 मोडणा ली [मोटना] ऊपर देखो (परह १,  
 ३—पत्र ५३) ।  
 मोडिअ वि [मोटित] १ भग्न, भांगा हुआ  
 (गा ५४६; णाया १, ६—पत्र १५७;  
 परह १, ३—पत्र ५३) । २ आच्छिन्न,  
 मोड़ा हुआ (विपा १, ६—पत्र ६८; स  
 ३३५) ।  
 मोड पुं [मोड] एक वणिक-कुल (कुम २०) ।  
 मोडेरय न [मोडेरक] नगर-विशेष (दे ६,  
 १०२; ती ७) ।  
 मोण न [मौन] मुनिपन, वाणी का संयम,  
 चुप्पी (औप; सुपा २३७; महा) । १ चर वि  
 [चर] मौन ब्रतवाला, वाणी का संयम-  
 वाला; वाचंयम (ठा ५, १—पत्र २६६;

पएह २:—पत्र १००)। °पय न [°पद्] संयम, चारित्र (सुप्र १. १३. ६)।

मोणावणा व्री [दे] प्रथम प्रसूति के समय पिता की ओर से किया जाता उत्सव-पूर्वक निमन्त्रण (उप ७६८ टी)।

मोणि वि [मौनिन] मौनवाला (उव; सुपा १४; संबोध २१)।

मोत्त देखो मुत्त = मुक्त (धर्मसं ७५)।

मोत्तव देखो मुंच।

मोत्ता देखो मुत्ता (से ७, २५; संक्षि ४; प्राकृ ६; पड् ८०)।

मोत्ति देखो मुत्ति = मुक्ति (पएह १, ५—पत्र ६४)।

मोत्तिअ देखो मुत्तिअ (गा ३१०; स्वप्न ६३; औप; सुपा २३१; महा; गडड)। °दाम न [°दाम] छन्द-विशेष (पिंग)।

मोत्तुआण

मोत्तुं } देखो मुंच = मुच।  
मोत्तूण }

मोत्थ देखो मुत्थ (जी ६; संक्षि ५; पि १२५; ग्रामा)।

मोदअ देखो मोअग = मोदक (स्वप्न ६०)।  
२ न. छन्द-विशेष (पिंग)।

मोदभ [दे] देखो मुदभ (दे ८, ४)।

मोर पुं [दे] धपच, चाण्डाल (दे ६, १४०)।

मोर पुं [मोर] १ पक्षि-विशेष, मयूर (हे १, १७१; कुमा)। २ छन्द-विशेष (पिंग)। °वंध पुं [°वन्ध] एक प्रकार का वन्धन (सुपा ३४५)। °सिहा व्री [°शिखा] एक महौषधि (ती ५)।

मोरउझा } अ. मुवा, व्यर्थ (हे २, २१४;  
मोरकुझा } कुमा; चउपपत्र० पत्र—७७,  
सुमतिजिन-चरित्र)।

मोरंड पुं [दे] तिल आदि का मोदक, वाद्य-विशेष (राज)।

मोरग वि [मायूरक] मयूर के पिच्छों से निष्पन्न (आचा. २, २, ३, १८)।

मोरचय पुं [दे] धपच, चाण्डाल (दे ६, १४०)।

मोरिय पुं [मौर्य] १ एक क्षत्रिय-वंश। २ मौर्य वंश में उत्पन्न (पि १३४)। °मुत्त पुं [°पुत्र] भगवान् महावीर का एक गणधर—प्रधान शिष्य (सम १६)।

मोरी व्री [मोरी] १ मयूर पक्षी की मादा, मोरनी (पि १६६; नाट—मृच्छ १८)। २ विद्या-विशेष (सुपा ४०१)।

मोरोग पुं [दे. मौलक] बांधने के लिए गाड़ा हुआ बूटा (उव)।

मोलि देखो मउलि (काल; सम १६)।

मोल देखो मुल (हे १, १२४; उव; उप पृ १०४; राया १, १—पत्र ६०; नग)।

मोस पुं [मोष] १ चोरी। २ चोरी का माल; 'राया जंपइ मोसं एसि अण्णमु' (सुप २२१; महा)।

मोस पुंन [मृषा] झूठ, असत्य भाषण; 'चउव्विहे मोसे पएणत्ते', 'दसवि मोसे पएणत्ते' (ठा ४, १; १०; औप, कप्प)।

मोसण वि [मोषण] चोरी करनेवाला (कुप्र ४७)।

मोसलि } व्री [दे. मुराली, मौशली]  
मोसली } वक्रादि-निरोक्षण का एक दोष, वक्र आदि की प्रतिलेखना करते समय मुसल की तरह ऊंचे या नीचे भीत आदि का स्पर्श करना, प्रतिलेखना का एक दोष; 'वज्जेयथा य मोसली तइया' (उत्त २६, २६; २५; औप २६५, २६६)।

मोसा देखो मुसा (उवा; हे १, १३६)।

मोह सक [मोहय] १ भ्रम में डालना। २ मुग्ध करना। मोहइ (भवि)। वक्र. मोहंत. मोहंत (पउम ४, ८६; ११, ६६)। कृ. देखो मोहणिज्ज।

मोह देखो मऊह (हे १, १७१; कुमा; कुप्र ४३७)।

मोह वि [मोघ] १ निष्फल, निरव्यंक्त (से १०, ७०; गा ४८२), 'मोहाइ पत्यणाए सो पुण सोएइ अण्णायं' (अज्ज १७५; आत्म १)। क्रि.वि. 'मोहं कयो पयासो' (चिइय ७५०)। २ असत्य, मिथ्या; 'मिच्छा मोहं विहलं अलिअं असचं असब्भुअं' (पाय)।

मोह पुं [मोह] १ मूढता, अज्ञता, अज्ञान (आचा; कुमा; पएण १, १)। २ विपरोत ज्ञान (कुमा २, ५३)। ३ चित्त की व्याकुलता (कुमा ५, ५)। ४ राग, प्रेम। ५ काम-क्रोडा; 'मोहाउठा मणुस्सा तह कामदुहं मुहं विति' (ग्रामू २८; पएह १, ४)। ६ मूर्खा, वेहोशी (स्वप्न ३१; स ६६६)। ७ कर्म-विशेष, मोहनीय कर्म (कम्म ४, ६०; ६६)। ८ छन्द-विशेष (पिंग)।

मोहण न [मोहण] १ मुग्ध करना। २ मन्त्र आदि से वश करना (सुपा ५२६)। ३ मूर्खा, वेहोशी (निसा ६)। ४ वशीकरण, मुग्ध करनेवाला मन्त्रादि-कर्म (सुपा ५२६)। ५ काम का एक वाण; ६ प्रेम, अनुराग (कप्प)। ७ मैथुन, रति-क्रिया (स ७६०; राया १, ८; जीव ३)। ८ वि. व्याकुल बनानेवाला (स ५५७; ७४४)। ९ मोहक, मुग्ध करनेवाला; 'मोहणं पणुणंमि' (धर्मवि ६५; सुर ३; २६; कपूर २५)।

मोहणिज्ज वि [मोहनीय] १ मोह-जनक। २ न. कर्म-विशेष, मोह का कारण-भूत कर्म (सम ६६; नग; अंत; औप)।

मोहणी व्री [मोहनी] एक महौषधि (ती ५)।  
मोहर न [मोखर्य] वाचाटता, वकवाद (पएह २, ५—पत्र १४८; पुष्प १८०)।

मोहर वि [मोखर] वाचाट, वकवादी (ठा १०—पत्र ५१३)।

मोहरिअ वि [मोखरिक] ऊपर देखो (ठा ६—पत्र ३७१; औप; सुपा ५२०)।

मोहरिअ न [मोखर्य] वाचालता, वकवाद (उवा; सुपा ५१४)।

मोहि वि [माहिन्] मुग्ध करनेवाला (भवि)।

मोहिणी व्री [माहिनी] छन्द-विशेष (पिंग)।

मोहिय वि [मोहित] १ मुग्ध किया हुआ (पएह १, ४; द्र १४)। २ न. निधुवन, मैथुन, रति-क्रोडा (राया १; ६—पत्र १६५)।

मोहुत्तिय वि [मोहृत्तिक] ज्योतिष-शास्त्र का जातकार (कुप्र ५)।

मौलिअ देखो मोरिय; 'सिखेदेहं वाव रांदकुल-

एगकुलिसस्त नौलिअकुलपडिड्वाकस्त अज-  
चाणकस्त' (मुद्रा ३०६) ।

मिम् अ. पाद-पूर्ति में प्रयुक्त किया जाता  
अव्यय (पिग) ।

मिम्व देखो इव (प्राकृ २६) ।  
म्हस देखो भंस = भंश । म्हसइ (प्राकृ ७६) ।

॥ इय सिरिपाइअसद्महणवमि मयाराइसद्संकलणो

एगतीसद्मो तरंगो समत्तो ॥

## य

य पुं [य] तालु-स्वानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष,  
अन्तस्थ यकार (प्राप्र; प्रामा) ।

य अ [च] १ हेतु-सूचक अव्यय (धर्मसं  
३८५) । २ देखो च = अ (ठा ३, १; न;  
पठम ६, ८४; १५, २; आ १२; आचा;  
रंभा; कम्म २, ३३; ४, ६; १०; देवेन्द्र  
११; प्रासू २७) ।

य देखो ज (आचा) ।

य वि [द] देनेवाला (श्रौप; राय; जीव ३) ।

यउणा देखो जँउणा (संज्ञि ७) ।

यंच सक [अञ्च] १ गमन करना । २  
पूजा करना । संक्र. यंचिय (ठा ५, १—  
पत्र ३००) ।

यंत वि [यत] प्रयत्नशील, उद्योगी; 'अ-यंत'  
(सुप्र २, २, ६३) ।

यंद देखो चंद (सुपा २२६) ।

यक देखो चक्र; 'दिसा-यक' (पठम ६, ७१) ।

यड देखो तड = तट (गउड) ।

यण देखो जण = जन (सुर १, १२१) ।  
यणइण (अप) देखो जणइण; 'तो वि ए  
देउ यणइणउ गोअरोहोइ मणस्तु' (पि १४  
टि) ।

यण देखो कण्ण = कण (पठम ६६, २८) ।

यत्तिअ वि [यात्रिक] यात्रा करनेवाला,  
अरण करनेवाला; 'सगउसएहि दिसायत्तिएहि'  
(उवा; वृह १) ।

यदावि अ [यद्यपि] अन्त्युपगम-सूचक अव्यय,  
स्त्रीकार-द्योतक निपात (पंचा १४, ३६) ।

यन्नोवइय देखो जणगोवइय (उव ६४८  
दी) ।

यम देखो जम = यम; 'दो अस्सा दो यमा'  
(ठा २, ३—पत्र ७७) ।

यर देखो कर = कर (गउड) ।

यल देखो तल = तल (उवा) ।

या देखो जा = या; 'सुरनारणा य सम्महिट्ठो  
जं यंति सुरमणुएमु' (विसे ४३१; कुमा  
८, ८) ।

याण सक [जा] जानना । याणइ, याणाइ,  
याणैइ, याणंति, याणामो, याणिमो (पि  
५१०; उव; भग; धर्मवि १७; वै ६३; प्रासू  
१०२) ।

याण देखो जाण = यान (सम २) ।

याल देखो काल (पठम ६, २४३) ।

याव (अप) देखो जाव = यावत् (कुमा) ।

यावदइ वि [यावदर्थ] यथेष्ट, जितने की  
आवश्यकता हो उतना (दस ५, २, २) ।

युत्त देखो जुत्त = युक्त; 'एयम् अयुत्तं जम्हा'  
(अञ्क १६७; रंभा) ।

येव } (पै. मा) देखो एव (पि ६०;  
येव्व } ६५) ।

यूचिश (मा) } देखो चिट्ठ = स्या । यूचि-  
यूचिशत (पै) } शदि (शाकारी भाषा) (प्राकृ  
१०५) । यूचिशदि (पै) (प्राकृ १२६) ।

य्येव (शौ) देखो एव (हे ४, २८०) ।

य्येव्व देखो येव (पि ६५) ।

॥ इय सिरिपाइअसद्महणवमि ययाराइसद्संकलणो

वत्तीसद्मो तरंगो समत्तो ॥



र

र पुं [र] मूर्धन्यानीय व्यञ्जन वरुण-विशेष (तिरि १६६; पिग) । °गण पुं [°गण] छन्दःशास्त्र-प्रसिद्ध मध्य-लघु अक्षरवाले तीन स्वरों का समुदाय (पिग) ।

र अ. पाद-पूरक अव्यय (हे २, २१७; कुमा) ।

र अ [दे] निश्चय-सूचक अव्यय (दसनि १, १५२) ।

रइ स्त्री [रति] १ काम-क्रीडा, सुरत, मैथुन (से १, ३२; कुमा) । २ कामदेव की स्त्री (कुमा) । ३ प्रीति, प्रेम, अनुराग (कुमा; सुपा ५११) । ४ कर्म-विशेष (कम्म २, १०) । ५ भगवान् पद्मप्रभ की मुख्य शिष्या (पव न) । ६ पुं. भूतानन्द नामक इन्द्र का एक सेनापति (इक) । °अर, °कर वि [°कर] १ रति-जनक (गा ३२६) । २ पुं. पवंत-विशेष (पएह १, ५; ठा १०; महा) । °कीला स्त्री [°क्रीडा] काम-क्रीडा (महा) । °केलि स्त्री [°केलि] वही अर्थ (काप्र २०१) ।

°घर न [°गृह] सुरत-मन्दिर, विलास-गृह (पि ३६६ ए) । °णाह, °नाह पुं [°नाथ] कामदेव (कुमा; सुर ६, ३१) । °पहु पुं [°प्रभु] वही अर्थ (कुमा) । °पभा स्त्री [°प्रभा] किन्नर नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी (इक; ठा ४, १—पत्र २०४) । °पिय पुं [°प्रिय] १ कामदेव (सुपा ७५) । २ एक इन्द्र । ३ किन्नर देवों की एक जाति (राज) । °पिया स्त्री [°प्रिया] वानव्यन्तरो के इन्द्र-विशेष की एक अग्र-महिषी (राया २—पत्र २५२) । °भवण न [°भवन] कामक्रीडा-गृह (महा) । °मंत वि [°मत्] १ राग-जनक । २ पुं. कागदेव, कन्दर्प (तंडु ४६) । °मंदिर न [°मन्दिर] शयन-गृह (पात्र) । °रमण पुं [°रमण] कामदेव (सुपा ४; २०६; कप्पू) । °लंभ पुं [°लम्भ] १ सुरत की प्राप्ति । २ कामदेव (से ११, न) । °वइ पुं [°पति] कामदेव (कुमा; सुपा २६२) । °विद्धि स्त्री [°वृद्धि] विद्या-विशेष (पजम ७, १४४) । °सुंदरी स्त्री [°सुन्दरी] एक राज-कन्या (उप ७२० टी) । °सुहव

पुं [°सुभग] कामदेव (कुमा) । °सेणा स्त्री [°सेना] किन्नरेन्द्र की एक अग्र-महिषी (इक; ठा ४, १—पत्र २०४) । °हर न [°गृह] शयन-गृह, सुरतमन्दिर (उप ६४० टी, महा) ।

रइ पुं [रवि] सूर्य, सूरज (गा ३४; से १, १४; ३२; कप्पू) ।

रइअ वि [रचित] बनाया हुआ, निर्मित (सुर ४, २४४; कुमा; श्रौप; कप्प) ।

रइअ वि [रचित] महल आदि की पीठ-मिति (अणु १५४) ।

रइआव सक [रचय्] बनवाना । संकृ. रइआविअ (ती ३) ।

रइगेह वि [दे] अभिलपित (दे ७, ३) ।

रइगेही स्त्री [दे] रति-तृष्णा (दे ७, ३) ।

रइजंत देखो रय = रचय् ।

रइलक्ख न [दे] जघन, नितम्ब (दे ७, १३; पड्) ।

रइलक्ख न [दे. रतिलक्ष] रति-संयोग, मैथुन (दे ७, १३) ।

रइहिय वि [रजस्वल] रज से युक्त, रजवाला (पि ५६५) ।

रइवाडिया देखो राय-वाडिया; 'सामिय रइवाडियातमओ' (तिरि १०६) ।

रईसर पुं [रतीश्वर] कामदेव, कन्दर्प (कुमा) ।

रउताणिया स्त्री [दे] रोग-विशेष, पामा, खुजली (तिरि ३०६) ।

रउह् देखो रोह् = रौह; 'रउह्बुह्हेहि अलोह-णिवो' (यति ४२; भवि) ।

रउरव वि [रौरव] भयंकर घोर । °काल पुं [°काल] माता के उदर में पतार किया जाता समय-विशेष; 'नवमासहि नियकुव्वाहि घरियउ पुणु रउरवकालहो नीउरियउ' (भवि) ।

रउस्सल वि [रजस्वल] रजो-युक्त, घृलि-युक्त (भग ७, ७—पत्र ३०५) ।

रओ देखो रय = रजस् (पिड ६ टी; सण) ।

रंक वि [रङ्क] गरीब, दीन (पिग) ।

रंखोल अक [दोलय्] १ झूलना । २ हिलना, चलना, कांपना । रंखोलइ (हे ४, ४०; वजा ६४) ।

रंखोलिय वि [दोलित] कम्पित (गउड) ।

रंखोलि वि [दोलित्] झूलनेवाला (गउड; कुमा; पात्र) ।

रंग अक [रङ्ग] इधर-उधर चलना । वक्र. रंगंत (कप्प; पउम १०, ३१, पएह १, ३—पत्र ५५) ।

रंग सक [रङ्ग्य्] रंगना । कर्म. रंजिजइ (संवेव १७) । वक्र. 'रायगिहं वरनयरं वर-नय-रंगंत-मंदिंरं अरिव' (कुम्मा १०) ।

रंग वि [राङ्ग] रंगा हुआ, रंग कर बनाया हुआ (दसनि २, १७) ।

रंग न [दे] रंग, रंगा, वातु-विशेष, सीसा (दे ७, १; से २, २६) ।

रंग पुं [रङ्ग] १ राग, प्रेम (तिरि ५१५) । २ नाट्यशाला, प्रेक्षा-भूमि (पात्र; सुपा १; कुमा) । ३ युद्ध-मण्डप, जय-भूमि (वर्मसं ७०३) । ४ संग्राम, लड़ाई (पिग) । ५ रक्त वर्ण, लाली (से २, २६) । ६ वर्ण, रंग (भवि) । ७ रंगना, रंजन, रंग चढाना (गउड) । °अ वि [°द] कुतूहल-जनक (से ६, ४२) । °वालि स्त्री [°आवलि] रंगोली (चउप्पन्न० पत्र ३२६ गा ७१४) ।

रंगण न [रङ्गन] १ राग, रंगना । २ पुं. जीव, आत्मा (भग २०, २—पत्र ७७६) ।

रंगिर वि [रङ्गित्] चलनेवाला (सुपा ३) ।

रंगिह वि [रङ्गवत्] रंगवाला (उर ६, २) ।

रंज सक [रञ्ज्य्] १ रंग लगाना । २ बुझी करना । रंजए, रंजइ (वज्जा १३६; हे ४, ४६) । कर्म. रंजिजइ (महा) । वक्र. रंजंत (संवे ३) । संकृ. रंजिऊण (पि ५०६) । कृ. रंजियव्य (आत्महि ६) ।

रंजग वि [रञ्जक] रंजन करनेवाला (रंभा) । रंजण न [रञ्जन] १ रंगना (विसे २६६१) । २ बुझी करना; 'परचित्तरंजणे' (उप ६०६)

टीः संवे ५) । ३ पुं. छन्द-विशेषः (पिंग) ।  
 ४ वि. खुशी करनेवाला, रागजनक (कुमा) ।  
 रंजण पुं [दे] १ घड़ा, कुम्भ (दे ७, ३) ।  
 २ कुण्डा, पात्र-विशेष (दे ७, ३, पात्र) ।  
 रंजविय } वि [रञ्जित] राग-युक्त किया  
 रंजिअ } हुआ (सण; से ६; ४८; गउड;  
 महा; हेका २७२) ।  
 रंजा ली [रण्डा] रंड़, विधवा (उप पृ ३१३,  
 वज्जा ४४, कप्पू; पिंग) ।  
 रंहुअ न [दे] रञ्हु, रत्तो; गुजराती में  
 'राहु' (दे ७, ३) ।  
 रंध सक [रध, राधय] रांधना, पकाना ।  
 'रंधो राधयते: स्मृतः' रंधइ (प्राकृ ७०),  
 रंधेहि (स २४६) । वक्र. रंधंत (णाय १,  
 ७—पत्र ११७) । संक्र. रंधिऊण (कुप्र  
 २०५) ।  
 रंध न [रन्ध्र] छिद्र, विवर (गा ६५२; रंभा;  
 भवि) ।  
 रंधण न [रन्धन, राधन] रांधना; पचन,  
 पाक (गा १४; पव ३०; सुअनि १२१ टी,  
 सुपा १२; ४०१) । घर न [गृह] पाक-  
 गृह (खण ३१) ।  
 रंधण न [रन्धन] पाक-गृह, रसोईघर (आचा  
 २, १०, १४) ।  
 रंप सक [तक्ष] छिलना; पतला करना ।  
 रंपइ (हे ४, १६४; प्राकृ ६५; पड्) ।  
 रंपण न [तक्षण] तनु-करण, पतला करना  
 (कुमा) ।  
 रंप देखो रंप । रंपइ, रंपए (हे ४, १६४;  
 पड्) ।  
 रंपण देखो रंपण (कुमा) ।  
 रंभ सक [गम्] जाना, गति करना । रंभइ  
 (हे ४, १६२), रंभंति (कुमा) ।  
 रंभ देखो रंप । रंभइ (घात्वा १४६) ।  
 रंभ सक [आ + रम्] आरम्भ करना ।  
 रंभइ (पड्) ।  
 रंभ पुं [दे] अन्दोलन-फलक, हिडोले का  
 तह्ता (दे ७, १) ।  
 रंभा ली [रम्भा] १ कदली, केला का गाछ  
 (सुपा २५४; ६०५; कुप्र ११७; पात्र) । २  
 देवांगना-विशेष, एक अम्तरा (सुपा २५४;

खण ५) । ३ वैरोचन नामक बलीन्द्र की  
 एक अग्र-महिली (ठा ५, १—पत्र ३०२;  
 णाय २—पत्र २५१) । ४ रावण की एक  
 पत्नी (पउम-७४, ८) ।  
 रक्ख सक [रक्ष] रक्षण करना, पालन  
 करना । रक्खइ (उव; महा) । भूका. रक्खीअ  
 (कुमा) । वक्र. रक्खंत (गा ३८; श्रौप; मा  
 ३७) । कवक्र. रक्खीअमाण (नाट—मालती  
 २८) । कृ. रक्ख, रक्खणिज्ज, रक्खियव्व,  
 रक्खेयव्व (से ३, ५; सार्ध १००; गउड;  
 सुपा २४०) ।  
 रक्ख पुंन [रक्षस] राक्षस (पात्र; कुप्र  
 ११३; सुपा १३०; सट्टि ६ टी; संबोध ४४) ।  
 रक्ख वि [रक्ष] १ रक्षक, रक्षा करनेवाला  
 (उप पृ ३६८; कप्प) । २ पुं. एक जैन मुनि  
 (कप्प) ।  
 रक्ख देखो रक्ख = रक्ख ।  
 रक्खअ } वि [रक्षक] रक्षण-कर्ता (नाट—  
 रक्खग } मालवि ५३; रंभा; कुप्र २३३;  
 सार्ध ६६) ।  
 रक्खण न [रक्षण] रक्षा, पालन (सुर १३,  
 १६७; गउड; प्रासू २३) ।  
 रक्खणा ली [रक्षणा] ऊपर देखो (उप ८५०;  
 स ६६) ।  
 रक्खणिया ली [दे] रखी हुई ली, रखेलिन,  
 रखनी, रखात (सुपा ३८३) ।  
 रक्खवाल वि [दे] रखवाला, रक्षा करनेवाला  
 (महा) ।  
 रक्खस पुं [राक्षस] १ देवों की एक जाति  
 (पएह १, ४—पत्र ६८) । २ विद्यावर-मनुष्यों  
 का एक वंश (पउम ५, २५२) । ३ वंश-  
 विशेष में उत्पन्न मनुष्य, एक विद्यावरजाति;  
 'तेणं चिय खयराणं रक्खसनामं कयं लोए'  
 (पउम ५, २५७) । ४ निशाचर, क्रव्याद (से  
 १५, १७; नाट—मुच्छ १३२) । ५ अहोरात्र  
 की तीसवाँ मुहूर्त (सम ५१; सुज १०, १३) ।  
 उरी ली [पुरी] लंका नगरी (से १२,  
 ८४) । णअरी ली [नगरी] वही  
 अर्थ (से १२, ७८) । णाह पुं [नाथ]  
 राक्षसों का राजा (से ८, १०४) ।  
 थ न [त्थ] अक्र-विशेष (पउम  
 ७१, ६३) । दीव पुं [द्वीप] सिंहल

द्वीप (पउम ५, १२६) । णाह देखो णाह  
 (पउम ६, ३६) । वइ पुं [पति] राक्षसों  
 का मुखिया (पउम ५, १२३; से ११, १) ।  
 णहिव पुं [धिप] वही अर्थ (से १५, ८७;  
 ६१) ।  
 रक्खसिंद पुं [राक्षसेन्द्र] राक्षसों का राजा  
 (पउम १२, ४) ।  
 रक्खसी ली [राक्षसी] १ राक्षस की ली  
 (नाट—मुच्छ २३८) । २ लिपि-विशेष (विसे  
 ४६४ टी) ।  
 रक्खसेंद देखो रक्खसिंद (से १२, ७७) ।  
 रक्खा ली [रक्षा] १ रक्षण, पालन (आ १०;  
 सुपा १०३; ११३) । २ राक्ष. भस्म; 'सो  
 चंदणं रक्खकए दहिजा' (सत्त २८; सुपा  
 ६५७) ।  
 रक्खिअ वि [रक्षित] १ पालित (गउड; गा  
 ३३३) । २ पुं. एक प्रसिद्ध जैन महर्षि (कप्प;  
 विसे २२८८) ।  
 रक्खिआ देखो रक्खसी (रंभा १७) ।  
 रक्खी ली [रक्षी] भगवान् अरनाथ की मुख्य  
 साध्वी (सम १५२; पव ८) ।  
 रक्खोवग वि [रक्षोपग] रक्षण में तत्पर  
 (राय ११३) ।  
 रगिह [दे] देखो रइगोह (पड्) ।  
 रग देखो रत्त = रक्त (हे २, १०; ८६;  
 पड्) ।  
 रगय न [दे] कुसुम्भ-वक्र (दे ७, ३, पात्र;  
 गउड) ।  
 रघुस पुं [रघुप] हरिवंश का एक राजा  
 (पउम २२, ६६) ।  
 रच अक [दे. रञ्ज] राचना, आसक्त होना,  
 अनुराग करना । रचइ, रच्चंति, रच्चेह (कुमा;  
 वज्जा ११२) । कर्म. 'रत्ते रच्चिअए जम्हा'  
 (कुप्र १३२) । वक्र. रचंत (भवि) । प्रयो.  
 रच्चावंति (वज्जा ११२) ।  
 रच्चण न [दे. रञ्ज] २ अनुराग । २ वि.  
 अनुराग करनेवाला, राचनेवाला (कुमा) ।  
 रच्चि वि [दे. रञ्जित] राचनेवाला (कुमा) ।  
 रच्छा देखो रक्खा (रंभा १६) ।  
 रच्छा ली [रथ्या] मुहल्ला (गा ११६; श्रौप;  
 कत्त) ।

रच्छामय पुं [दे. रथ्यामृग] श्वान, कुत्ता (दे ७, ४) ।

रज देखो रय = रजस् (कुमा) ।

रजक } पुंल्लो [रजक] बोवो, कपड़ा बोने  
रजग } का बन्धा करनेवाला (श्रा १२; दे  
५, ३२) । लो. की (दे १, ११४) ।

रजय देखो रयय = रजत (इक) ।

रज्ज अक [रज्ज] ? अनुराग करना, आसक्त होना । २ रँगाना, रँग-युक्त होना । रज्जइ (आचा: उव); रज्जह (एयाया १, ८—पत्र १४८) । भवि. रज्जहिति (श्रीप) । वक्र. रज्जंत, रज्जमाण (से १०, २०; एयाया १, १७; उत २६, ३) । कृ. रज्जियव्व (पएह २, ५—पत्र १४६) ।

रज्ज न [राज्य] ? राज, राजा का अधिकृत देश । २ शासन, हुकूमत (एयाया १, ८; कुमा; दं ४७; भग, प्राह) । °पालिया लो [°पालिका] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) । °वइ पुं [°पति] राजा (कप्प) । °सिरी लो [°श्री] राज्य-लक्ष्मी (महा) । °हिसेय पुं [°भिषेक] राजगद्दी पर बैठाने का उत्सव (पउम ७७, ३६) ।

रज्जय पुंन. नीचे देखो; 'खररज्जवेसु वदा' (पउम ३६, ११६) ।

रज्जु लो [रज्जु] ? रस्सी (पात्र; उवा) । २ एक प्रकार की नाप; 'चउदसरज्जु लो' (पव १४३) ।

रज्जु वि [दे] लेखक, लिखने का काम करने-वाला (कप्प) । °समा लो [°सभा] ? लेखक-गृह । २ शुल्क-गृह, चूंगी-घर; 'हत्थि-पालस रतो रज्जुसमाए' (कप्प) ।

रज्जिय देखो रद्विअ = रहित; 'अरज्जियान्-मितावां तहवीं तविति' (सूय १, ५, १, १७) ।

रट्ट न [राट्ट] देश, जनपद (सुपा ३०७; महा) । °उड, °कूड पुं [°कूट] राज-नियुक्त प्रतिनिधि, सूवेदार (मिपा १, १ टी—पत्र ११; मिपा १, १—पत्र ११) ।

रट्टिअ वि [राट्टिय] ? देश-सम्बन्धी । २ पुं. नाटक की भाषा में राजा का चाला (अमि १६४) ।

रट्टिअ पुं [राट्टिक] देश को चिन्ता के लिए नियुक्त राज-प्रतिनिधि, सूवेदार (पएह १, ५—पत्र ६४) ।

रड अक [रट्ट] ? रोना । २ चिल्लाना । रडइ (भवि) । वक्र. रडंत (हे ४, ४४५; भवि) ।

रडग न [रटन] चिल्लाहट, चीख (मिड २२५) ।

रडिय न [रटित] ? रदन, रोना (पएह २, ५) । २ आवाज करना, शब्द-करण; 'परहुय-वहय रडियं कुहकुहमहु रसदेण' (रंभा) । ३ चिल्लाना, चीख (एयाया १, १—पत्र ६३) । ४ वि. कलहायित, भगड़ावू, भगड़ाखोर; 'कलहाइअं रडियं' (पात्र) ।

रडरडिय न [रटरटित] शब्द-विशेष, वाद्य-विशेष की आवाज (सुपा ५०) ।

रडु वि [दे] खिसक कर गिरा हुआ, गुजराती में 'रडेडु' (कुप्र ४५६) ।

रडु लो [रडु] छन्द-विशेष (मिग) ।

रण पुंन [रण] ? संग्राम, लड़ाई (कुमा; पात्र) । २ पुं. शब्द, आवाज (पात्र) ।

°खंभउर न [°स्तम्भपुर] अजमेर के समीप का एक प्राचीन नगर; 'रखंभउरजिणहरे चडाविया कणयमयकलसा' (मृणि १०६०१) ।

रणकार पुं [रणकार] शब्द-विशेष (गडड) ।

रणमण अक [रणमणाय] 'रन् भन्' आवाज करना । रणमणइ (वज्जा १२८) । वक्र. रणमणंत (भवि) ।

रणमणिर वि [रणमणायित्त] 'रन् भन्' आवाज करनेवाला (सुपा ६४१; वमंवि ८८) ।

रणरण अक [रणरणाय] 'रन् रन्' आवाज करना । वक्र. रणरणंत (मिग) ।

रणरण } पुं [दे. रणरणक] ? निःश्वास,  
रणरणय } नोसास; 'अइउएहा रणरणया दुप्पेच्छा इसहा डुरालोया' (वज्जा ७८) ।

२ उद्वेग, पीड़ा, अश्रुति; 'गव्यपियतंगमासा-भंससमुच्चलियरणरणइन्नं' (सुर ४, २३०; पात्र) । ३ उल्लेख, औत्सुक्य (दे १, १३६; गडड; वमि. ४८; संवे २) ।

रणरणाय देखो रणरण = रणरणाय । वक्र. रणरणायंत (पउम ६४, ३६) ।

रणिअ न [रणित] शब्द, आवाज (सुर १, २४८) ।

रणिर वि [रणित्त] आवाज करनेवाला (सुपा ३२७; गडड) ।

रणण न [अरण्य] जंगल, अटवी (हे १, ६६; प्राप्र; श्रीप) ।

रत्त पुं [रक्त] ? लाल वर्ण, लाल रंग । २ कुसुम । ३ वृक्ष-विशेष, हिज्जल का पेड़ (हे २, १०) । ४ न. कुंकुम । ५ ताम्र, ताँबा । ६ सिद्धर । ७ हिगुल । ८ लून, बधिर । ९ राग (प्राप्र) । १० वि. रँग हुआ (हेका २७२) । ११ लाल रँगवाला (पात्र) । १२ अनुराग-युक्त (श्रीव ७५७; प्रासू १५५; १६०) । °कंवल्ला लो [°कंम्वल्ला] मेरु पर्वत के पएडक वन में स्थित एक शिला, जिसपर जिनदेवों का अभिषेक किया जाता है (ठा २, ३—पत्र ८०) । °कूड न [°कूट]

शिखर-विशेष (राज) । °कोरिंटय पुं [°कुरण्टक] वृक्ष-विशेष (पउम ५३, ७६) । °कख, °च्छे वि [°ाक्ष] ? लाल आँखवाला (राज; सुर २, ६) । लो. °च्छी (श्रीपभा २२ टी) । २ पुं. महिप, मैसा (दे ७, १३) ।

°ट्ट पुं [°ार्थ] विद्यावर वंश का एक राजा (पउम ५, ४४) । °धाउ पुं [°धातु] कुएडल पर्वत का एक शिखर (दीव) । °पड पुं [°पट] परिव्राजक; संन्यासी (एयाया १, १५—पत्र १६३) । °पपत्राय पुं [°प्रपात] द्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७३) । °पपह पुं [°प्रभ] कुएडल-पर्वत का एक शिखर (दीव) । °रणण न [°रत्त] रत्न की एक जाति; पञ्च-राग मणि (श्रीप) । °वई लो [°वती] एक नदी (सम २७; ४३; इक) । °वड देखो °पड (सुख ८, १३) । °सुभदा लो [°सुभद्रा] श्रीकृष्ण की एक भगिनी (पएह १, ४—पत्र ८५) । °सोग, °सोय पुं [°शोक] लाल अशोक का पेड़ (एयाया १, १; महा) ।

°रत्त पुं [°रात्र] रात, निशा (जी ३४) ।

रत्तग देखो रत्त = रक्त (महा) ।

रत्तदण न [रक्तचन्दन] लाल चन्दन (सुपा १८१) ।

रत्तकखर न [दे] चीधु, मय-विशेष (दे ७, ४)।  
 रत्तच्छ पुं [दे] १ हंस । २ व्याघ्र (७, १३)।  
 रत्तडि (अप) देखो रत्ति = रात्रि (पि ५६६)।  
 रत्तय न [दे. रत्तक] बन्धूक वृक्ष का फूल (दे ७, ३)।  
 रत्ता स्त्री [रत्ता] एक नदी (सम २७; ४३, इक)। वइप्पवाय पुं [वतीप्रपात] ब्रह्म-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७३)।  
 रत्ति स्त्री [दे] आना, हुकुम (दे ७, १)।  
 रत्ति स्त्री [रात्रि] रात, निशा (हे २, ७६; कुमा; प्रासू ६०)। अंधय वि [अन्धक] रात को नहीं देख सकनेवाला (गा ६६७; हेका २६)। अर वि [चर] १ रात में विहरनेवाला । २ पुं. रातस (पड्)।  
 दिवह न [दिवस] रात-दिन, अर्हनिश (पि ८८)। देखो राइ = रात्रि।  
 रत्तिचर देखो रत्ति = अर (धर्मवि ७२)।  
 रत्तिदिवह न [रात्रिदिवस] रात-दिन, अर्हनिश, निरन्तर (अचु ७८)।  
 रत्तिदिय } न [रात्रिन्दिय] ऊपर देखो  
 रत्तिदिव } (पउम ८, १६४; ७५, ८५)।  
 रत्तिध वि [रात्र्यन्ध] जो रात में न देख सकता हो वह (प्रासू १७५)।  
 रत्तीअ पुं [दे] नापित, हजाम (दे ७, २; पात्र)।  
 रत्तुप्पल न [रत्तोत्पाल] लाल कमल (परह १, ४)।  
 रत्तोआ स्त्री [रत्तोदा] एक नदी (इक)।  
 रत्तोप्पल देखो रत्तुप्पल (नाट—मृच्छ १४५)।  
 रत्था देखो रच्छा (गा ४०; अंत १२; सुर १, ६६)।  
 रद्ध वि [रद्ध, राद्ध] राधा हुआ, पक्व (पिंड १६५; सुपा-६३६)।  
 रद्धि वि [दे] प्रधान, श्रेष्ठ (दे ७, २)।  
 रत्त वि रणग (सुपा ४०१; कुमा)।  
 रत्प सक [आ + क्रम] आक्रमण करना। रत्पइ (प्राक् ७३)।  
 रत्प पुं [दे] बल्मीक, गुजराती में 'राफडो' (दे ७, १; पात्र)। २ रोग-विशेष; करि कंपु पायमूलिनु रत्पय (सण)।

रत्पाडिआ स्त्री [दे] गोधा, गोह (दे ७, ४)।  
 रत्वा वि [दे] राव, यवाण (आ १४; उर २, १२; धर्मवि ४२)।  
 रभस देखो रहस = रस (गा ८७२; ८६४; ६३४)।  
 रम अक [रम्] १ क्रीड़ा करना । २ संभोग करना । रमइ, रमए, रमते, रमिज्ज, रमेज्जा (कुमा)। भवि. रमिस्सदि, रमिहिइ (कुमा)।  
 कर्म. रमिज्जइ (कुमा)। वक्क. रमतं, रममाण (गा ४४; कुमा)। संक. रमिअ, रमिउं, रमिऊण, रंतूण (हे २, १४६, ३, १३६; महा; पि ३१२), रमेप्पि, रमेप्पिणु, रमेवि (अप) (पि ५८८)। हेक. रमिउं (उप पृ ३८)। क. रमिअव्व (गा ४३१), देखो रमणिज्ज, रमणीअ, रम्म। प्रयो. रमावेति (पि ५५२)।  
 रमण न [रमण] १ क्रीडा, क्रीडन । २ सुरत, संभोग, रति-क्रीडा (पव ३८; कुमा; उप पृ १८७)। ३ स्मर-कूपिका, योनि (कुमा)। ४ पुं. जघन, नितम्ब (पात्र)। ५ पति, वर, स्वामी (पउम ५१, १६; पिग)। ६ छन्द-विशेष (पिग)।  
 रमणिज्ज वि [रमणीय] १ सुन्दर मनोहर, रम्य (प्राप्र; पात्र; अग्नि २००)। २ न. एक देव-विमान (सम १७)। ३ पुं. नन्दीश्वर द्वीप के मध्य में उत्तर दिशा की श्रीर स्थित एक श्रवण-गिरि (पव २६६ टी)। ४ एक विजय, प्रान्त-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०)।  
 रमणी स्त्री [रमणी] १ नारी, स्त्री (पात्र; उप पृ १८७; प्रासू १५५; १८०)। २ एक पुष्करिणी (इक)।  
 रमणीअ वि [रमणीय] रम्य, मनोरम (प्राप्र; स्वप्न ४०; गउड; सुपा २५५; भवि)।  
 रमा स्त्री [रमा] लक्ष्मी; श्री (कुम्मा ३)।  
 रमिअ देखो रम।  
 रमिअ वि [रत] १ क्रीडित, जिसने क्रीडा की हो वह (कुमा ४, ५०)। २ न. रमण, क्रीडा (शाया १, ६—पत्र १६५; कुमा; सुपा-३७३; प्रासू ६५)।  
 रमिअ वि [रमित] रमाया हुआ (कुमा ३, ८६)।

रमिर वि [रत्तु] रमण करनेवाला (कुमा)।  
 रम्म वि [रम्य] १ मनोरम, रमणीय, सुन्दर (पात्र; से ६, ४७; सुर १, ६६; प्रासू ७१)। २ पुं. विजय-विशेष, एक प्रान्त (ठा २, ३—पत्र ८०)। ३ चम्पक का गाछ (से ६, ४७)। ४ न. एक देव-विमान (सम १७)।  
 रम्मग } पुं [रम्यक] १ एक विजय, प्रान्त-  
 रम्मय } विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०)।  
 २ एक युगलिक-श्रेष्ठ, जंबू-द्वीप का वर्ष-विशेष (सम १२; ठा २, ३—पत्र ६७; इक)। ३ न. एक देव-विमान (सम १७)। ४ पर्वत-विशेष का एक कूट (जं ४)।  
 रम्ह देखो रंफ। रम्हइ (प्राक् ६५)।  
 रय सक [रज्] रंगना, 'नो घोएजा, नो रएज्जा, नो घोयरत्ताई वत्थाई धारेज्जा' (आचा)।  
 रय सक [रच्य] बनाना, निर्माण करना। रयइ, रयइ (हे ४, ६४; पड्; महा)। कवक्क. रइज्जंत (से ८, ८७)।  
 रय पुंन [रजस्] १ रेणु, धूल (श्रीप; पात्र; कुप्र २१)। २ पराण, पुण्य-रज (से ३, ४८)। ३ सांख्य-दर्शन में उक्त प्रकृति का एक गुण (कुप्र २१)। ४ बध्यमान कर्म (कुमा ७, ५८; वेइय ६२२; उव)।  
 ताण न [ताण] जैन मुनि का एक उपकरण (श्रीध ६६८; परह २, ५—पत्र १४८)।  
 रसत्ता स्त्री [स्वत्ता] ऋतुमती स्त्री (दे १, १२५)।  
 हर पुंन [हर] जैन मुनि का एक उपकरण (संवाव १५)।  
 हरण न [हरण] वही अर्थ (शाया १, १; कत्)।  
 रय वि [रत] १ अनुरक्त, आसक्त (श्रीप; उव; सुर १, १२; सुपा ३०६; प्रासू १६६)। २ स्थित (से ६, ४२)। ३ न. रति-कर्म, मैथुन (सम १५; उव; गा १५५; स १८०; वज्जा १००; सुपा ४०३)।  
 रय पुं [रय] वेग (कुमा; से २, ७; सण)।  
 रय देखो रव (पउम ११४, १७)।  
 रयग देखो रयय = रजक (आ १२; सुपा ५८८)।  
 रयण न [रजन्] रंगना; रंग-युक्त करना (सूत्र १, ६, १२)।

रयण वि [ रचन ] करनेवाला, निर्माता;  
'चेडीसचित्तरयणु' (सण) ।

रयण पुं [ रदन ] दांत, दशन (उप ६६६ दो;  
पात्र; कात्र १०२; नाट. सङ्ग १३) ।

रयण पुंन [ रत्न ] १ माण्डिन्य आदि बहुभूज्य  
परवर-मणिया; 'दुवे रयणा समुपवा' (निर  
१, १; उप ५६३; साया १, १; सुपा  
१४७; जी ३; कुमा. हे २, १०१) । २  
श्रेष्ठ, दज्जाति में उत्तम (सन २६; कुमा ३,  
४७); 'तहवि ह चंद-भरिच्छा विरला रय-  
णापरे रयणा' (वज्जा १५६) । ३ छन्द-  
विशेष (पिग) । ४ द्वीप-विशेष (साया १,  
६; पठम ५५, १०) । ५ पर्वत-विशेष का  
एक कूट (ठा ४, २; ८) । ६ पुं. व. रत्न-  
द्वीप का निवासी (पठम ५५, १७) । ७ उर  
न [ पुर ] नगर-विशेष (सण) । ८ चित्त पुं  
[ चित्र ] विद्यावर वंश का एक राजा  
(पठम ५, १५) । ९ द्वीप पुं [ द्वीप ] द्वीप-  
विशेष (साया १, ६—पत्र १६५) । १० निहि  
पुं [ निधि ] समुद्र, सागर (सुपा ७,  
१२६) । ११ पुढवी की [ पृथिवी ] पहली  
नरक-भूमि, रत्नप्रभा नामक नरक-पृथिवी (स  
१३२) । १२ पुर देखो उर (कुप्र ६; महा; सण) ।  
१३ प्पभा, प्पहा की [ प्रभा ] १ पहली  
नरक-भूमि (ठा ७—पत्र ३०८; श्रौप; भग) ।  
२ भोम-नामक राक्षसेन्द्र की एक पटरानी  
(ठा ४, १—पत्र २०४) । ३ रत्न का तेज  
(स १३३) । ४ मय वि [ मय ] रत्नों का  
बना हुआ (महा) । ५ माला की [ माला ]  
छन्द-विशेष (अजि २४) । ६ मालि पुं  
[ मालिन ] विद्यावर-वंश में उत्पन्न नमि-  
राज का एक पुत्र (पठम ५, १४) । ७ मुस  
वि [ मुप् ] रत्नों को डुरानेवाला (पड) ।  
८ रह पुं [ रथ ] विद्यावर वंश का एक राजा  
(पठम ५, १४) । ९ रासि पुं [ राशि ] समुद्र  
(प्राब) । १० वड पुं [ पति ] रत्नों का मालिक,  
घनी, श्रीमंत (सुपा २६६) । ११ वई की  
[ वती ] एक रानी (रयण ३) । १२ वज्ज पुं  
[ वज्ज ] विद्यावर-वंशीय एक राजा (पठम  
५, १४) । १३ वह वि [ वह ] रत्न-धारक  
(गठड १०७१) । १४ संचय न [ संचय ] १  
रचक पर्वत का कूट (इक) । २ एक नगर

(इक; सुर ३, २०) । १ संचया की  
[ संचया ] १ मंगलावती नामक विजय की  
राजधानी (ठा २, ३—पत्र १०) । २ ईशान-  
नेत्र की समुद्ररा-नामक इन्द्राणी की एक  
राजधानी (इक) । ३ समया की [ समया ]  
मंगलावती नामक विजय की एक राजधानी  
(इक) । ४ सार पुं [ सार ] १ एक राजा  
(राज) । २ एक श्रेष्ठ का नाम (उप ७२८  
दो) । ३ सिंह पुं [ सिंह ] एक जैन आचार्य,  
संयोगसुक्तिकाकुलक कर्ता (संवे १२) । ४ सिंह  
पुं [ सिख ] एक राजा (उप १०३१ दो) ।  
५ शेहर पुं [ शेखर ] १ एक राजा (रयण  
३) । २ विक्रम की पनरहवीं शताब्दी में  
विद्यमान एक जैन आचार्य और ग्रंथकार  
(निरि १३४०) । ६ अर, अंगर पुं [ अकर ]  
१ रत्न की खान (पड) । २ समुद्र (पात्र;  
सुपा ३७; प्राप् ६७; साया १, १७—पत्र  
२२८) । ७ भा की [ भा ] देखो प्पभा  
(उत्त २६, १५७) । ८ मय देखो मय  
(महा; श्रौप) । ९ अरसुअ पुं [ अरसुत ] १  
चन्द्रमा । २ एक वलिर-पुत्र (धा १६) ।  
३ अलि, अली की [ अलि, अली ] १  
रत्नों का हार (सम्म २२) । २ तप-विशेष  
(अंत २५) । ३ अन्व-विशेष (दे ८, ७७) ।  
४ एक विद्यावर-राजकन्या (पठम ६, ५२) ।  
५ अह न [ अह ] नगर-विशेष (महा) ।  
६ असव पुं [ अस्व ] रावण का पिता (पठम  
७, ५६; ७१) । ७ असवसुअ पुं [ अस्वसुत ]  
रावण (पठम ८, २२१) । ८ अहिय वि  
[ अहिक ] ज्येष्ठ, अवस्था में बड़ा (राज) ।  
रयणप्पभिय वि [ रत्नप्रभिक ] रत्नप्रभा-  
संबन्धी (पंच २, ६६) ।  
रयणा की [ रचना ] निर्माण, कृति (उत्त  
१५, १८; चैदय ८६६; सुपा ३०४; रंभा) ।  
रयणा की [ रत्ना ] रत्नप्रभा नामक नरक-  
भूमि (पत्र १७५) ।  
रयणि पुंकी [ रति ] एक हाथ की नाप, बद्ध-  
मुष्टि हाथ का परिमाण (कस; पत्र ५८;  
१७६) ।  
रयणि की [ रजनि ] देखो रयणी = रजनी  
(साया १, २—पत्र ७६; कप्प) । १ अर पुं  
[ अर ] १ राजस (सि १०, ६६; पात्र) ।

अर, अर पुं [ अर ] चन्द्रमा (हे १, ८  
टि; कप्प) । २ अह, अह पुं [ अह ]  
चन्द्रमा (पात्र; सुपा ३३) । ३ भक्त न  
[ भक्त ] राति में खाना (सुपा ४६५) ।  
४ अमथ पुं [ अमथ ] चन्द्रमा (सण) ।  
५ अहह पुं [ अहह ] चन्द्रमा (कप्प) ।  
६ अराम पुं [ अराम ] प्रतःकाय; सुवह  
(पात्र) ।

रयणिद पुं [ रजनीन्द्र ] चन्द्रमा (सण) ।

रयणिद्वय न [ दि ] कुमुद, कमल (दे ७, ४;  
पड) ।

रयणी की [ रती ] देखो रयणि = रति (ठा  
१; सन १२; जीवस १७७; जी ३३; श्रौप) ।

रयणी की [ रजनी ] १ राति, रात (पात्र;  
प्राप् १३६; कुमा) । २ ईशानेन्द्र के लोकनाम  
की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४) ।

३ चमरेन्द्र की एक अग्र-महिणी (ठा ५, १—  
पत्र ३०२) । ४ नव्यम ग्राम की एक सूच्यता

(ठा ७—पत्र ३६३) । ५ पट्टन ग्राम की  
एक सूच्यता; 'मंगी कोरव्णीया हरी व रय-  
तणी(?) वणी) वारकंता व' (ठा ७—पत्र  
३६३) । ६ भोजन न [ भोजन ] रात में  
खाना (धा २०) । ७ सार न [ सार ] नुरत,  
मैयुन (सि ३, ४८) । देखो रयणि = रजनि  
(हे १, ८) ।

रयणी की [ रजनी ] श्रौपवि-विशेष—१  
पिडदार । २ हरिद्रा, हलदी (उत्तनि ३) ।

रयणुच्यय पुं [ रत्नोच्यय ] १ मेरु-पर्वत  
रयणोच्यय पुं (सुज ५ दो—पत्र ७७; इक) ।  
२ कूट-विशेष (इक) ।

रयणोच्यया की [ रत्नोच्यया ] समुद्रनामक  
इन्द्राणी की एक राजधानी (इक) ।

रयत न [ रजत ] १ लम्प, चांदी (साया  
१, १—पत्र ६६; प्राक् १२; प्रात्र;  
रयय पात्र; उवा; श्रौप) । २ एक देव-  
विमान (देवेन्द्र १३१) । ३ हाथी का दांत ।  
४ हार, माला । ५ सुवर्ण; सोना । ६ खिर,  
खून । ७ शैल, पर्वत । ८ बवल वण । ९  
शिवर-विशेष । १० वि. सफेद बर्णवाला,  
धैत (प्राक् १२; प्रात्र; हे १; १७७; १८०;  
२०६) । ११ गिरि पुं [ गिरि ] पर्वत-विशेष  
(साया १, १; श्रौप) । १२ वत्त न [ पात्र ]

चांदी का वरतन (गडड)। <sup>०</sup>मय वि [ <sup>०</sup>मय ]  
चांदी का बना हुआ (खाया १, १—पत्र  
५४; पि ७०)।

रयय पुं [रजक] घोड़ी (स २८६; पात्र)।

रययली ली [दे] शिशुत्व. बाल्य (दे ७, ३)।

रयवाडी देखो राय-वाडिआ (सिरि ७५८)।

रयाव सक [रचय्] बनवाना; निर्माण  
कराना। रयावेइ, रयाविति, रयावेह (कप्य)।  
संक्र. रयावेत्ता (कप्य)।

रयाविय वि [रचित] बनवाया हुआ (स  
४३५)।

रह्ला ली [दे] प्रियपु, मालकांगनी (दे ७,  
१)।

रह्लि पुं ली [दे] लम्बा मधुर शब्द (माल  
६०)।

रव सक [रु] १ कहना, बोलना। २ बच  
करना। ३ गति करना। ४ प्रक. रोना।  
५ शब्द करना; 'सुदं स्वति परिसाए' (सूत्र  
१, ४, १, १८), खइ (हे ४, २३३; संदि  
३३)। वक्र. रवंत, रवंत (खाया १, १—  
पत्र ६५; पिंग; श्रौप)।

रव सक [रात्रय्] बुलवाना, आह्वान करना।  
वक्र. रवंत (श्रौप)।

रव सक [दे] आद्र करना। भवि—खेहिइ  
(णदि)।

रव पुं [रव] १ शब्द, आवाज (कप्य; महा;  
सण; भवि)। २ वि. मधुर शब्दवाला; 'रवं  
अलसं कलमंजुलं' (पात्र)।

रव (अप) देखो रय = रजस् (भवि)।

रवण } (अप) देखो रमण (भवि)।  
रवण }

रवण न [रवण] आवाज करना, 'पचासने य  
करेणुया सया रवणमीला आसी' (महा)।

रवण } (अप) देखो रम्म = रम्म (हे ४,  
रवन्न } ४२२; भवि)।

रवय पुं [दे] मन्थान-दण्ड, विलोने की लकड़ी।  
गुजराती में 'रवेयो' (दे ७, ३)।

रवरय अक [रोरुच] १ बूब आवाज  
करना। २ बारंबार आवाज करना। वक्र.  
रवरवंत (श्रौप)।

रवि वि [रविन्] आवाज करनेवाला (से २,  
२६)।

रवि न [रवि] १ सूर्य, सूरज (से २, २६;  
गडड; सण)। २ राक्षस-वंश का एक राजा  
(पउम ५, २६२)। ३ अकं वृक्ष, आक का  
पेड़ (हे १, १७२)। <sup>०</sup>तेअ पुं [ <sup>०</sup>तेजस् ]

१ इक्ष्वाकु वंश का एक राजा (पउम ५,  
४)। २ राक्षस वंश का एक राजा, एक  
लंका (पउम ५, २६५)। <sup>०</sup>तेया ली

[ <sup>०</sup>तेजा ] एक विद्या (पउम ७, १४१)।

<sup>०</sup>नंदण पु [ <sup>०</sup>नन्दन ] शनि-ग्रह (श्रा १२)।

<sup>०</sup>पपभ पुं [ <sup>०</sup>प्रभ ] वानरद्वीप का एक राजा  
(पउम ६, ६८)। <sup>०</sup>भत्ता ली [ <sup>०</sup>भक्ता ] एक

महीपति (तो ५)। <sup>०</sup>भास पुं [ <sup>०</sup>भास ]  
खड्ग-विशेष, सूर्यहास खड्ग (पउम ५५,  
२६)। <sup>०</sup>वार पुं [ <sup>०</sup>वार ] दिन-विशेष, रविवार

(कुप्र ४११)। <sup>०</sup>सुअ पुं [ <sup>०</sup>सुत ] १ शनिश्चर  
ग्रह (से ८, २८; सुपा ३६)। २ रामचन्द्र

का एक सेनापति, सुग्रीव (से १५, ५६)।

<sup>०</sup>हास पुं [ <sup>०</sup>हास ] सूर्यहास खड्ग (पउम  
५३, २७)।

रविगय न [रविगत] जिसपर सूर्य हो वह  
तारा (वव १)।

रविय वि [दे] आद्र किया हुआ, मिजाया  
हुआ (विसे १४५६)।

रव्वारिअ पुं [दे] दूत, संदेश-हारक, 'जिण  
अवज्जो रव्वारिओ ति' (सुपा ४२८)।

रस सक [रस्] चिह्नाना, आवाज करना।  
रसइ (गा ४३६)। वक्र. रसंत (सुर २,  
७४; सुपा २७३)।

रस पुं न [रस] १ जिह्वा का विषय—मधुर,  
तिक आदि; 'एगे रसे', 'एवं गंवाइ रसाइं  
फासाइं' (ठा १०—पत्र ४७१; प्राप् १७४)।

२ स्वभाव; प्रकृति (से ४, ३२)। ३ साहित्य-  
शास्त्र-प्रसिद्ध शृंगार आदि नव रस (उत्त  
१४, ३२; धर्मवि १३; सिरि ३६)। ४

जल, पानी (से २, २७; धर्मवि १३)।

५ मुख (उत्त १४, ३१)। ६ आसक्ति,  
दिलचस्पी (सत्त ५३; गडड)। ७ अनुराग,  
प्रेम (पात्र)। ८ मद्य आदि द्रव पदार्थ (पएह  
१, १; कुमा)। ९ पारद, पारा (निज् १३)।

१० भुक्त अन्न का प्रथम परिणाम, शरीरस्य  
धातु-विशेष (गडड)। ११ कर्म-विशेष (कम्म  
२, ३१)। १२ छन्दःशास्त्र-प्रसिद्ध प्रस्ताव-

विशेष (पिंग)। १३ माधुर्य आदि रसवाला  
पदार्थ (सम ११; नव २८)। <sup>०</sup>नाम न  
[ <sup>०</sup>नामन् ] कर्म-विशेष (सम ६७)। <sup>०</sup>न्न  
वि [ <sup>०</sup>न्न ] रस का जानकार (सुपा २६१)।

<sup>०</sup>भेइ वि [ <sup>०</sup>भेदिन् ] रसवाली चीजों का  
भेल-सेल करनेवाला (पउम ७५, ५२)।

<sup>०</sup>मंत वि [ <sup>०</sup>वन् ] रस-युक्त (नग, ठा ५,  
३—पत्र ३३३)। <sup>०</sup>वई ली [ <sup>०</sup>वती ] रसोई

(सुपा ११)। <sup>०</sup>ल, <sup>०</sup>लु वि [ <sup>०</sup>वन् ]  
रसवाला (हे २, १५६; मुख ३, १)।

<sup>०</sup>वण पुं [ <sup>०</sup>पण ] मद्य की दूकान (पव  
११२)।

रस पुं न [रस] निप्यन्द, निचोड़, सार (दसनि  
३, १६)।

रसन न [रसन] जिह्वा, जीभ (पएह १,  
१—पत्र २३; आचा)।

रसणा ली [रसना] १ मेखला, कांची (पात्र;  
गडड; से १, १८)। २ जिह्वा, जीभ (पात्र)।

<sup>०</sup>ल वि [ <sup>०</sup>वत् ] रसनावाला (सुपा ५५६)।

रसइ न [दे] गुल्लो-मूल, बूढ़े का मूल भाग  
(दे ७, २)।

रसा ली [रसा] पृथिवी, धरती (हे १, १७७;  
१८०; कुमा)।

रसाउ पुं [दे. रसायुप्] अमर, मौंरा (दे  
७, २; पात्र)।

रसाय पुं [दे] ऊपर देखो (दे ७, २)।

रसायण न [रसायन] वैद्यक-प्रसिद्ध श्रौषध-  
विशेष (विपा १, ७; प्राप् १६२; भवि)।

रसाल पुं [रसाल] आन्न-वृत्त, आम का गांठ  
(सम्मत्त १७३)।

रसाला ली [दे. रसाला] माजिता, पेय-  
विशेष (दे ७, २; पात्र)।

रसालु पुं [दे. रसालु] मन्त्रिका, राज-  
योग्य पाक-विशेष—दो पल घी, एक पल

मधु, आषा आडक दही, बीस मिरचा तथा  
दस पल चीनी या गुड़ से बनता पाक (ठा  
३, १—पत्र ११८; सुज २० टी; पत्र  
२५६)।

रसि देखो रसिस (प्राक् २६)।

रसिअ वि [रसिक] १ रसज्ञ, रसिया,  
शौकीन (से १, ६)। २ रस-युक्त, रसवाला

(सुपा २६; २१७; पउम ३१, ४६)।

रसिअ वि [रसित] १ रस-युक्त, रसवाला (पत्र २)। २ न. शब्द, आवाज (गठड; पएह १, १)।

रसिआ ली [दे, रसिआ] १ पूव, पीव, ब्रण से निकलना गंदा नफेद सुन, गुजराती में 'रसी' (श्रा १२; विपा १, ७; पएह १, १)। २ छन्द-विशेष (विग)।

रसिद पुं [रसेन्द्र] पारद, पारा (जी ३; ध्रु १५८)।

रसिग देखो रसिअ = रसिक (पंचा २, ३४)।

रसिर वि [रसिर्] आवाज करनेवाला (सण)।

रसोइ (प्रप) देखो रस-वई (भवि)।

रसि पुं [रसि] १ किरण, 'भरहं समा-नियाओ आइअं चैव रसिओ' (पउम ८०, ६४; पाय; प्राप्र)। २ रसि; रज्जु (प्रासू ११७)।

रह अक [दे] रहना। रहद, रहए, रहई (विग; महा; सिरि ८६३), रहसु, रहह (सिरि ३५५; ३५३)।

रह सक [रह] त्यागना, छोड़ना (कप्प; विग)।

रह पुं [रभस] उत्साह, 'पुणो पुणो ते स-रहं दुहंति' (सूअ १, ५, १, १८)। देखो रहस = रभस।

रह पुं [रहस्] १ एकान्त, निर्जन; 'तव्य रहो ति आगच्छ' (कुप्र ८२), 'लहु मे रहं देवु' (सुपा १७४; वजा १५२)। २ प्रच्छन्न, गोप्य (ठा ३, ४)।

रह पुं [रथ] १ मान-विशेष, स्यन्दन; 'धम्मत्त निन्वाणपहे रहाणि' (सत्त १८, पाअ; कुमा)। २ पुं. एक जैन महापि (कप्प)। °कार पुं [°कार] रथ-निर्माता, बर्चकि, बड़ई (सुपा ४४४; कुप्र १०४; उव)। °चरिया ली [°चर्या] रथ को हाँकना; 'ईसत्यसत्वरहचरियाकुसलो' (महा)। °जत्ता ली [°जात्रा] उत्सव-विशेष (सुपा ५४१; सुर १६, १६; सिरि ११७५)। °णोउर न [°नूपुर] नगर-विशेष (पउम २८, ७; इक)। °णोउरचक्रवाल न [°नूपुर-चक्रवाल] वैताअ पर्वत पर स्थित एक नगर (पउम ५, ६४; इक)। °नेमि पुं

[°नेमि] भगवान् नेमिनाथ का भाई (उत्त २२, ३६)। °नेमिअ न [°नेमीय] उत्तर-ध्वज सूत्र का वादना प्रव्ययन (उत्त २२)। °मुत्तल पुं [°मुत्तल] भारतवर्ष को एक प्राचीन लड़ाई, राजा कोणिक और राजा चेटक का संग्राम (नग ७, ६)। °थार देवो °कार (पाअ)। °रेणु पुं [°रेणु] एक नाथ, आठ प्रसरेणु का एक परिमाण (इक)। °वीरउर, °वीरपुर न [°वीरपुर] एक नगर (राज; विते २५५०)।

रहई अ [रभसा] वेग से (स ७६२)।

रहंग पुं [रथाङ्ग] १ चम्पक पत्ती, चकमा (पाअ; सुर ३, २४०; कुमा)। श्री. °तो (सुपा ४६८; सुर १०, १८५; कुमा)। २ न. चक्र, पहिया (पाअ)।

रहट्ट देवो अरहट्ट (गा ४६०; वि १४२)।

रहण न [दे] रहना, स्थिति, निवास (धर्मवि २१; त्यण ६)।

रहण न [रहन] १ व्याग। २ विरति, विराम; 'सररहण' (विग)।

रहमाण पुं [दे] १ यवन मत का एक उत्सव-वेत्ता (मोह १००)। २ बुदा, अल्ता, परमेस्वर (ती १५)।

रहस पुं [रभस] १ श्रीलुक्य, उच्छ्रएडा (कुमा)। २ वेग। ३ हर्ष। ४ पूर्वापर का अविचार (संशि ७; गठड)।

रहस देवो रहस्स = रहस्य; 'रहसानन्वाणे' (उवा; संवोध ४२; सुपा ४५४)।

रहसा अ [रभसा] वेग से (गठड)।

रहस्स वि [रहस्य] १ गुज, गोपनीय (पाअ; सुपा ३१८)। २ एकान्त में उत्पन्न, एकान्त का (हे २, २०४)। ३ न. उत्सव, उत्सव, भावार्थ (श्राव ७६०; रभा १६)। ४ अणुवाद-स्थान (वृह ६)।

रहस्स वि [हस्स] १ लघु, छोटा (विपा १, ८—पत्र ६३)। २ एक मात्रावाला स्वर (उत्त २६, ७२)।

रहस्स न [ह्रात्स] १ लापव, छोटाई। °मंत वि [°वत्] लघु, छोटा (सूअ २, १, १३)।

रहसिसय वि [राहसिक] प्रच्छन्न, गुप्त (विपा १, १—पत्र ५)।

रहापिअ वि [दे] स्थापित, स्थापना हुआ (हम्मोर १३)।

रहि वि [रथिन्] १ रथ में बड़नेवाला देवा (उव ७२८—टी)। २ रथ को बड़ानेवाला (कुप्र २८७; ४६०; धर्मवि १११)।

रहिअ वि [रथिक] उतर देवो, 'रहिपि मयारहिलो' (उव ७२८—टी; पएह ३, ४—पत्र १३०; धर्मवि २०)।

रहिअ वि [रहित] पवित्रक, पवित्र, श्रुव (उवा; इ ३२)।

रहिअ वि [रहित] एकान्त, अकेला (पत्र १)।

रहिअ वि [दे] रथ हुआ, स्थित (धर्मवि २२)।

रहु पुं [रथु] १ सूयं बंध का एक स्वनाम-व्यात राजा (उत्तर ५०)। २ पुं. व. रथु-बंध में उत्पन्न क्षत्रिय (सि ४; १६)। ३ पुं. श्रीरामचन्द्र; 'ताहू कर्मवसरिजी देइ रहु खिचने दिट्टो' (पउम ११३, २१)। ४

कालिदास-प्रणीत एक संस्कृत काव्य-ग्रन्थ (गठड)। °आर पुं [°कार] रथुबंध नामक संस्कृत काव्य-ग्रन्थ का कर्ता, कवि कालिदास (गठड)। °शाह पुं [°नाथ] १ श्रीरामचन्द्र (सि १४, १६; पउम ११३, ५५)। २

उत्पन्न (सि १४, ६२)। °तणयपुं [°तनय] वही अर्थ (सि २, १; १४, २६)। °तिलय पुं [°तिलक] श्रीरामचन्द्र (सुपा २०४)।

°त्तम पुं [°उत्तम] वही अर्थ (पउम १०२, १७६)। °पुंगव पुं [°पुङ्गव] वही (सि ३, ५; हे २, १८८; ३, ७०)। °सुअ पुं [°सुव] वही (सि ५, १६)।

रहो देवो रह = रहस् (कप्प; श्रा)। °कम्म न [°कर्मन्] एकान्त-व्यापार (ठा ६—पत्र ४६०)।

रा सक [रा] देना, दान करना। राइ (घात्वा १४६)।

रा अक [रे] शब्द करना, आवाज करना। राइ (प्राह ६६)।

रा अक [ली] श्लेष करना, चिन्तना। राइ (पड)।

राअला ली [दे] प्रियंयु, मालकांगनी (दे ७, १)।

राइ देखो रक्ति (हे २, ८८; काप्र १०६; महा; पइ) । २ चमरेन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ५, १—पत्र ३०२) । ३ ईशानेन्द्र के सोम लोकपाल की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४) । ४ भक्त न [°भक्त] रात्रि-भोजन, रात में खाना (सुपा ४८५) । ५ भोजन न [°भोजन] वही अर्थ (सम ३६; कस) । देखो राई = रात्रि ।

राइ बी [राजि] पक्ति, श्रेणी (पात्र; औप) । २ रेखा, लकीर (कम्म १, १६; सुपा १६७) । ३ राई, राज-संपन्न, एक प्रकार का मसाला (दे ६, ८८) ।

राइ वि [रागिन्] राग-युक्त, रागवाला (दसा ६) । बी. ०णी (महा) ।

राइ वि [राजिन्] शोभनेवाला (निचू १६) । राई देखो राय = राजन् (हे २, १४८; ३, ५२; ५३; कुमा) ।

राइअ वि [राजित] शोभित (से १, ५६; कुमा, ६, ६३) ।

राइअ वि [रात्रिक] रात्रि-सम्बन्धी (उत्त २६, ४६; औप; पडि) ।

राइआ बी [राजिका] राई का गाछ, 'गोलाएइअ कन्दे चकईतो राइग्राइ पत्ताई' (गा १७१ अ) । देखो राइगा ।

राइइ पुं [राजेन्द्र] बड़ा राजा (कुमा) ।

राइइअ पुं [रात्रिन्दिव] रात-दिन, अहोरात्र (भग; आचा; कप्य; पव ७८; सम २१) ।

राइक वि [राजकीय] राज-सम्बन्धी (हे २, १४८; कुमा) ।

राइगा बी [राजिका] राई, राज-सरसों (कुप्र ४५) ।

राइणिअ वि [रात्तिक] १ चारित्रवाला, संयमी (पंचा १२, ६) । २ पर्याय से ज्येष्ठ, साधुत्व-प्राप्ति की अवस्था से बड़ा (सम ३७; ५८; कप्य) ।

राइणिअ वि [राजकल्प] राजा के समान वैभववाला, श्रीमन्त (सूत्र १, २, ३, ३) ।

राइण्ण पुं [राजन्त्य] राजवंशीय, क्षत्रिय राइन्न (सम १५१; कप्य; औप; भग) ।

राइलेऊण संक्र. चोरकर (नंदीटिप्पणक यंथिम पादलिप्तकया नैनयिकी बुद्धि लिपयक) ।

राइल वि [रागिन्] राग-युक्त (देवेन्द्र २७८) ।

राई बी [राजी] देखो राइ = राजि (गउड; सुपा ३४; मासू ६२; पव २५६) ।

राई बी [रात्रि] देखो राइ = रात्रि (पात्र; णाया २—पत्र १५०; औप; सुपा ४६१; कस) । १ दिवस न [°दिवस] रात्रिदिवस, अर्हनिश (सुपा १२७) ।

राईमई बी [राजीमती] राजा उग्रसेन की पुत्री और भगवान् नेमिनाथ की पत्नी (पडि) ।

राईव न [राजीव] कमल, पत्र (पात्र; हे १, १८०) ।

राईसर पुं [राजेश्वर] १ राजाओं के मालिक, महाराज । २ युवराज (औप; उवा; कप्य) ।

राउत्त पुं [राजपुत्र] राजपूत, क्षत्रिय (प्राक ३०) ।

राउल पुं [राजकुल] १ राजाओं का दूय, राज-समूह (कुमा; हे १, २६७; प्राप्र) । २ राजा का बंस (पड) । ३ राज-गृह, दरवार; 'एँ इदिस्स राउलस्स दूरेण पणामो कीरदि, जल्य वंभणावि एवं विडंविज्जंति' (मोह ११) । देखो राओल ।

राउलिय वि [राजकुलिक] राजकुल-सम्बन्धी (सुख २, ३१) ।

राउल देखो राइक (प्राक ३५) ।

राएसि पुं [राजपि] १ श्रेष्ठ राजा । २ अपि-तुल्य राजा, संयतात्मा भूपति (अभि ३६; विक्र ६८; मोह ३) ।

राओ अ [रात्रौ] रात में (णाया १, १—पत्र ६१; सुपा ४६७; कप्य) ।

राओल देखो राउल;

'तो किपि घणं सयणेहि विलसियं किपि वाणुपुत्तेहि ।

किपि गयं राओले एस अणुत्तत्ति भणुज्जण ॥

(धर्मवि १४०) ।

राग देखो राय = राग (कप्य; सुपा २४१) ।

रागि देखो राइ = रागिन् (पउम ११७, ४१) ।

राघव देखो राहव । १ घरिणी बी [गृहिणी] सीता, जातकी (पउम ४६, ५७) ।

राच ? [रूपे. वे] देखो राय = राजन् (हे राचि ४, ३२५; ३०४; प्राप्र) ।

राज देखो राय = राजन् (हे ४, २६७; पि १६८) ।

राजस वि [राजस] रजो-गुण-प्रधान, 'राज-सचित्तस्स पुरस्स' (कुप्र ४२८) ।

राडि बी [राटि] दूम, चिल्लाहट (सुख २, १५) ।

राडि बी [दे. राटि] संग्राम, लड़ाई (दे ७, ४) ।

राढा बी [राढा] १ विभूषा (धर्मसं १०१८; कप्य) । २ भव्यता (वज्जा १८) । ३ बंगाल का एक प्रान्त । ४ बंगाल देश की एक नगरी (कप्य) । ५ इत्त वि [°वत्] भव्य आत्मा; 'गंजणरहिमो धम्मो राढाइत्ताणु संपडइ' (वज्जा १८) । ६ मणि पुं [°मणि] काच-मणि (उत्त २०, ४२) ।

राग सक [वि + नम्] विशेष नमना ।

राणइ (?) (धात्वा १४६) ।

राण पुं [राजन्] राणा, राजा (चंड; सिरि ११४) ।

राणय पुं [राजक] १ राणा, राजा (ती १५; सिरि १२३; १२५) । २ छोटा राजा (सिरि ६८६; १०४०) ।

राणिआ ? बी [राजिका, ०डी] रानी, राज-राणी (पत्नी (कुमा ३; आवक ६३ टी; सिरि १२५; २६७) ।

राम सक [रमय] रमण कराना । क. रामेयव्य (भक्त ८५) ।

राम पुं [राम] १ श्री रामचन्द्र, राजा दशरथ का बड़ा पुत्र (गा ३५; उप पृ ३७५; कुमा) । २ परशुराम (कुमा १, ३१) । ३ क्षत्रिय परिव्राजक-विशेष (औप) । ४ बलदेव, बलभद्र, वासुदेव का बड़ा भाई (पात्र) । ५ वि. रमने-वाला (उप पृ ३७५) । ६ कण्ह पुं [°कण्ह] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (राज) । ७ कण्ह बी [°कण्हा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अंत २५) । ८ गिरि पुं [°गिरि] पर्वत-विशेष (पउम ४०, १६) । ९ गुत्त पुं [°गुत्त] एक राजपि (सूत्र १, ३, ४, २) । १० देव पुं [°देव] श्रीरामचन्द्र (पउम ४५, २६) । ११ पुत्त पुं [°पुत्त] एक जैन मुनि (अनु २) । १२ पुरी बी [°पुरी] अयोध्या नगरी (ती ११) । १३ रक्खिआ बी [रक्षिता]



ईशानिन्द्र की एक पटरानी (ठा ८—पत्र ४२६; इक)।

रामणिज्जअ न [रामणीयक] रमणीयता, सौन्दर्य (विक्र २८)।

रामा स्त्री [रामा] १ स्त्री, महिला, नारी (तंदु ५०; कुमा; पात्र; वजा १०६; उप ३५७ टी)। २ नववें जिनदेव की माता (सम १५१)। ३ ईशानिन्द्र की एक पटरानी (ठा ८—पत्र ४२६; इक)। ४ छन्द-विशेष (पिंग)।

रामायण न [रामायण] १ वाल्मीकि-कृत एक संस्कृत काव्यग्रन्थ (पउम २, ११६; महा)। २ रामचन्द्र तथा रावण की लड़ाई (पउम १०५, १६)।

रामिअ वि [रमित] रमण कराया हुआ (गा ५६; पउम ८०, १६)।

रामेसर पुं [रामेश्वर] दक्षिण भारत का एक हिन्दू-तीर्थ (सम्मत् ८४)।

राय श्रक [राज्] चमकना, शोभना। रायइ (हे ४, १००)। वक्र-रायं; रायमाण (कप्प)।

राय देखो रा = रै। रायइ (प्राक ६६)।

राय पुं [राग] १ प्रेम, प्रीति (प्रासू १८०)। २ मत्सर, द्वेष; 'न पेमराइल्ला' (देवेन्द्र २७८)। ३ रँगना, रंजन। ४ वरण। ५ अनुराग। ६ राजा, नरपति। ७ चन्द्र, चांद। ८ लाल वरण। ९ लाल रँगवाली वस्तु। १० वसन्त आदि स्वर (हे १, ६८)।

राय पुं [राजन्] १ राजा, नर-पति, नरेश (आचा; उवा; आ २७; सुपा १०३)। २ चन्द्र, चन्द्रमा (आ २७, हम्मोर ३; धर्मवि ३)। ३ एक महाग्रह (सुज २०)। ४ इन्द्र। ५ क्षत्रिय। ६ यक्ष। ७ शुचि, पवित्र। ८ श्रेष्ठ, उत्तम (हे ३, ४६; ५०)। ९ इच्छा, अभिलाषा (से १; ६)। १० छन्द-विशेष (पिंग)। ईअ वि [कीय] राज-संबन्धी (प्राक ३५)। उत्त पुं [पुत्र] राज-पुत्र, राज-कुमार (सुर ३; १६५)। उल देखो राउल (हे १, २६७; कुमा; पड; प्राप्र, अभि १८४)। कीअ देखो ईअ (नाट—शकु १०४)। कुल देखो उल (महा)।

केर, क्व वि [कीय] राज-संबन्धी (हे २, १४८; कुमा; पड)। गिह न [गृह] मगव देश की प्राचीन राजधानी, जो आजकल 'राजगीर' नाम से प्रसिद्ध है (ठा १०—पत्र ४७७; उवा; अंत)। गिहि स्त्री [गृही] वही अर्थ (ती ३)। चंपय पुं [चम्पक] वृक्ष-विशेष, उत्तम चम्पक-वृक्ष (आ १२)। धम्म पुं [धर्म] राजा का कर्तव्य (नाट—उत्तर ४१)। धाणी स्त्री [धानी] राज-नगर, राजा का मुख्य नगर, जहाँ राजा रहता हो (नाट—चैत १३२)। पत्ती स्त्री [पत्नी] रानी (सुर १३, ५; सुपा ३७५)। पसेणीय वि [प्रश्नीय] एक जैन आगम-ग्रन्थ (राय)। पह पुं [पथ] राज-मार्ग (महा; नाट—चैत १३०)। पिंड पुं [पिण्ड] राजा के घर की भिन्ना—आहार (सम ३६)। पुत्त देखो उत्त (गडड)। पुर न [पुर] नगर-विशेष (पउम १, ८)। पुरिस पुं [पुरुष] राजा का आदर्शी, राज-कर्मचारी (पउम २८, ४)। मग पुं [मार्ग] राजपथ, सड़क (श्रीप; महा)। मास पुं [माप] धान्य-विशेष, बरवंटी (आ १८; संबोध ४३)। राय पुं [राज] राजाओं का राजा, राजेश्वर (सुपा १०७)। रिसि देखो रापसि (णाय १, ५—पत्र १११; उप ७२८ टी; कुमा; सण)। रुक्ख पुं [वृक्ष] वृक्ष-विशेष (श्रीप)। लच्छी स्त्री [लक्ष्मी] राज-वैभव (अभि १३१; महा)। ललिय पुं [ललित] आठवें बलदेव के पूर्व जन्म का नाम (सम १५३)। वट्टय न [वार्तिक] राज-संबन्धी वार्तिक-संग्रह (हे २, ३०)। वल्ली स्त्री [वल्ली] लता-विशेष (पण १—पत्र ३६)। वाडिआ, वाडी स्त्री [पाटिका, पाटी] चतुरंग सैन्य-अभिकरण, राजा की चतुर्विध सेना के साथ सवारी (कुमा; कुप्र ११६; १२०; सुपा २२२)। सट्टूल पुं [शार्दूल] चक्रवर्ती राजा, श्रेष्ठ राजा (सम १५२)। सिट्ठि पुं [श्रेष्ठिन्] नगर-सेठ (भवि)। सिरी स्त्री [श्री] राज-लक्ष्मी (से १, १३)। सुअ पुं [सुत] राजकुमार (कप्प; उप ७२८ टी)। सुअ पुं [शुक] उत्तम तोता (उप ७२८

टी)। सुअ पुं [सृय] वज्र-विशेष; 'पिडे-हमाइमेहे रायसुए आसमेहपमुमेहे' (पउम ११, ४२)। सेण पुं [सेन] छन्द-विशेष (पिंग)। सेहर पुं [शेखर] १ महादेव, शिव। २ एक राजा (सुपा ५२६)। ३ एक कवि, कर्पूरमंजरी का कर्ता (कण्)। हंस पुंस्त्री [हंस] १ उत्तम हंस पक्षी। २ श्रेष्ठ राजा (सुर १२, ३४; गा ६२४; गडड; सुपा १३६; रंभा; भवि)। स्त्री, सी (सुपा ३३४; नाट—रत्ना २३)। हर न [गृह] राजा का महल (पउम ८२, ८६; हे २, १४४)। हाणी देखो धाण; (सम ८०, पउम २०, ८)। हिराय, हिराय पुं [अधिराज] राजाओं का राजा, चक्रवर्ती राजा (काल; सुपा १०५)। हिय पुं [धिप] वही अर्थ (सुपा १०५)।

राय देखो राय = राव (से ६, ७२)।

राय पुं [दे] चटक, गौरैया पक्षी (दे ७, ४)।

राय पुं [रात्र] रात्रि, रात (आचा)।

रायं देखो राय = राज्।

रायंहुअ पुं [दे] १ वेतस या वेंत का रायंहु पेड़ (पात्र; दे ७, १४)। २ पुं-शरम (दे ७, १४)।

रायंस पुं [राजांस] राज-यक्ष्मा, क्षय का व्याधि (आचा)।

रायंसि वि [राजांसिन्] राजयक्ष्मावाला, क्षय का रोगी (आचा)।

रायगइ स्त्री [दे] जलौका, जोंक (दे ७, ५)।

रायगाल पुं [राजार्गल] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)।

रायणिअ देखो राइणिअ = रातिक (उव; श्लेषमा २२३)।

रायणी स्त्री [राजादनी] खिन्नी, खिरनी का पेड़ (पउम ५३, ७६)।

रायण देखो राइण (ठा ३, १—पत्र ११४; उप ३५६ टी)।

रायनीइ स्त्री [राजनीति] राजा की शासन करने की रीति (राय ११७)।

रायमइया स्त्री [राजीमत्तिका] देखो राई-मई (कुप्र १)।

रायस देखो राजस (से ३; से ३, १५)।

रायाण देखो राय = राजन्; (हे ३, ५६; पड्) ।

राल पुं [राल, क] धान्य-विशेष, रालग एक प्रकार की कण्टु (सुअ २, २, रालय ११; ठा ७—पत्र ४०५; पिड १६२; वजा ३४) ।

राला स्त्री [दे] प्रियंगु, मालकांगनी; (दे ७, १) ।

राय सक [दे] आद्र करना । भवि, रावेहिनि (विसे २४६ टी) ।

राय देखो रंज = रजय् । रावेइ (हे ४, ४६) । हेइ, राविडं (कुमा) ।

राय सक [रायय्] पुकारना, आह्वान करना । वक्र, रावेत (श्रीप) ।

राय पुं [राय] १ रोला, कलकल (पाअ) । २ पुकार, आवाज (सुपा ३४८; कुमा) ।

रावण पुं [रावण] १ एक स्वनाम-प्रसिद्ध लंका-पति (पि ३६०) । २ गुल्म-विशेष (परण १—पत्र १२) ।

राविअ वि [रञ्जित] रंगा हुआ (दे ७, ५) । राविअ वि [दे] आस्वादित (दे ७, ५) ।

रास पुं [रास, क] एक प्रकार का मृत्प, रासग जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते-नाचते और गान करते-करते मंडलाकार फिरना होता है (दे २, ३८; पाअ; वजा १२२; सम्मत १४१; धर्मवि ८१) ।

रासभ देखो रासह (सुर २, १०२) ।

रासय देखो रासग (सुर १, ४६; सुपा ५०; ४३३) ।

रासह पुं स्त्री [रासभ] गदंभ, गदहा (पाअ; प्राअ; रंभा) । स्त्री, ही (काल) ।

रासाणंदिअय न [रासानन्दितक] छन्द-विशेष (अजि १२) ।

रासालुद्धय पुं [रासालुब्धक] छन्द-विशेष (अजि १०) ।

रासि देखो रसि (संज्ञि १७) ।

रासि पुं स्त्री [राशि] १ समूह, ढग, ढेर (श्रीप ४०७; श्रीप; सुर २, ५; कुमा) । २ ज्योतिष्क-प्रसिद्ध मेप आदि बारह राशि (वित्तर १०६) । ३ गणित-विशेष (ठा ४, ३) ।

राह पुं [राध] १ वैशाख मास । २ वसन्त ऋतु (से १, १३) । ३ एक जैन आचार्य (उप २८५; सुख २, १५) ।

राह पुं [दे] १ दयित, प्रिय । २ वि. निरन्तर । ३ शोभित । ४ सनाथ । ५ पलित, सफेद केशवाला (दे ७, १३) । ६ रुचिर, सुन्दर (पाअ) ।

राहअ पुं [राधय] १ रघुवंश में उत्पन्न राहव (उत्तर २०) । २ श्रीरामचन्द्र (से १२, २२; १, १३; ४७) ।

राहा स्त्री [राधा] १ वृन्दावन की एक प्रधान गोपी, श्रीकृष्ण की पत्नी (वजा १२२; पिग) । २ राधावेव में रखी जाती पुतली (उप १ १३०) । ३ शक्ति-विशेष । ४ कर्ण का पालन करनेवाली माता (प्राक ४२) । मंडव पुं [मण्डप] जहाँ पर राधावेव किया जाय वह स्थान (सुपा २६६) । वेह पुं [वेध] एक तरह की वेध-क्रिया, जिसमें चक्राकार घूमती पुतली की वाम चक्षु वीधी जाती है (उप ६३५; सुपा २५५) ।

राहिआ स्त्री [राधिका] ऊपर देखो (गा राही ८६; हे ४, ४४२; प्राक ४२) ।

राहु पुं [राहु] १ ग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८; पाअ) । २ कृष्ण पुद्गल-विशेष (सुज्ज २०) । ३ विक्रम की पहली शताब्दी के एक जैन आचार्य (पउम ११८, ११७) ।

राहुहय न [राहुहत] जिसमें सूर्य और चन्द्र का ग्रहण हो वह नक्षत्र (वव १) ।

राहेअ पुं [राधेय] राधा-पुत्र, कर्ण (गउड) ।

रिअ [रे] संभाषण-सूचक अव्यय (तंदु ५०; ५२ टी) ।

रि सक [ऋ] गमन करना । कर्म, अज्जए (विसे १३६६) ।

रिअ सक [री] गमन करना । रियइ, रियति, रिए (सुअ २, २, २०; सुपा ४४५; उत्त २४, ४) । वक्र, रियंत (पउम २८, ४) ।

रिअ सक [प्र + विश्] प्रवेश करना, पैठना । रियइ (हे ४, १८३; कुमा) ।

रिअ न [ऋत] १ गमन, 'पुरओ रियं सोह-माणे' (भग) । २ सत्य (भग ८, ७) ।

रिअ वि [दे] लून, काटा हुआ (पड्) ।

रिउ देखो उउ (हे १, १४१; कुमा; पव १४१) ।

रिउ वि [ऋजु] १ सरल, सीधा (सुपा ३४६) । २ न. विशेष पदावै, सामान्य-भित्त वस्तु (पव २७०) । सुत्त पुं [मूत्र] नय-विशेष (विसे २२३१; २६०८) । देखो उउजु ।

रिउ पुं [रिपु] शत्रु, वैरी, दुश्मन (सुर २, ६६; कुमा) । महण पुं [मथन] राक्षस-वंश का एक राजा (पउम ५, २६३) ।

रिउ स्त्री [ऋच्] वेद का नियत अक्षर-पादवाला अंश । वेवेन पुं [वेद] एक-वेद-ग्रंथ (साया १, ५; कप) ।

रिखण न [रिङ्गण] सर्पण, गति, चाल (पउम २५, १२) ।

रिखि वि [रिङ्गिन्] चलनेवाला, गिद्धाव-रखि हदन्नए (?गिद्धु वव रिखी हदन्नए) (पिड ४७१) ।

रिंग देखो रिग । रिगइ, रिगए (हे ४, २५६ टि; पड्; पिग) । वक्र, रिंगंत (हास्य १४६) ।

रिंगण न [रिङ्गण] चलना, सर्पण (पव २) ।

रिंगणी स्त्री [दे] वल्लो-विशेष, कण्टकारिका, गुजराती में 'रिंगणी' (दे २, ४; उर २, ८) ।

रिंगिअ न [दे] भ्रमण (दे ७, ६) ।

रिंगिअ न [रिङ्गित] १ रंगना, कच्छप की तरह हाथ के बल चलना । २ गुरु-नन्दन का एक दोष (गुभा २४) ।

रिंगिसिया स्त्री [दे] वाद्य-विशेष (राज) ।

रिङ्ग (अप) देखो रिचङ्ग = ऋङ्ग (भवि) ।

रिङ्गोली स्त्री [दे] पंक्ति, श्रेणी (दे ७, ७; सुर ३, ३१; विसे १४३६ टी; पाअ; चेइय ४४; सम्मत १८८; धर्मवि ३७; भवि) ।

रिंडी स्त्री [दे] कन्याप्राया, कन्या की तरह का फटा-टूटा आच्छादन-वस्त्र (दे ७, ५) ।

रिक्क वि [दे] स्तोत्र, थोड़ा (दे ७, ६) ।

रिक्क देखो रिक्त = रिक्त (आचा; पाअ; पउम ८, ११८; सुपा ४२२; चउ ३६) ।

रिक्किअ वि [दे] शटित, सड़ा हुआ (दे ७, ७) ।

रिक्ख अक [रिङ्ख] चलना । वक्र, 'गिरिख अन्निअमपवखो अंतरिखे रिक्खंतो लक्खिज्जइ' (कुप्र ६७) ।

रिक्ख वि [दे] ? वृद्ध, वृद्धा । २ पुं. वंश-परिणाम, वृद्धता (दे ७, ६) ।

रिक्ख पुं [च्छ] ? नालू, श्वापद प्राणि-विशेष (हे २, १६) । २ न. नक्षत्र (पात्रः सुर ३, २६; न, ११६) । ३ पह पुं [पथ] आकाश (सुर ११, १७१) । ४ राय पुं [राज] वानर-वंश का एक राजा (पउम ८, २३४) ।

रिक्खण न [दे] ? उपलम्भ, अविगम । २ कथन (दे ७, १४) ।

रिक्खा देखो रेहा = रेखा (श्रौष १७६) ।

रिग } अक [रिङ्ग] ? रेंगना, धीरे-धीरे  
रिगा } और जमीन से रगड़ खाते हुए चलना ।

२ प्रवेश करना । रिगइ, रिगइ (हे ४, २५६; टि) ।

रिग पुं [दे] प्रवेश (दे ७, ५) ।

रिच द्वीन. देखो रिउ = ऋच् (पि ५६; ३१८) । द्वी. चा (नाट—रत्ना ३८) ।

रिच्छ वि [दे] वृद्ध, वृद्धा (दे ७, ६) ।

रिच्छ देखो रिक्ख = ऋक्ष (हे १, १४०; २, १६; पात्र) । ३ हिच पुं [धिप] जाम्बवान्, राम का एक सेनापति (से ४, १८; ४५) ।

रिच्छभल पुं [दे] नालू, रोछ (दे ७, ७) ।

रिजु देखो रिउ = ऋजु (भाग) ।

रिजु देखो रिउ = ऋजु (निते ७८४) ।

रिज देखो रिअ = री । रिजइ (आचा) ।

रिजु देखो रिउ = ऋजु (हे १, १४१; संति १७; कुमा) ।

रिज्ज अक [च्छ] ? बढ़ना । २ रोझना, बुझी होना । रिज्जइ (भवि) ।

रिड पुं [दे. अरिड] ? अरिष्ट, दुरित (पड; पि १४२) । २ दैत्य-विशेष (पड; से १, ३) । ३ काक, कौशा (दे ७, ६; णाया १, १—पत्र ६३; पड; पात्र) । ४ नेमि पुं [नेमि] वाइसर्वे जिनदेव (पि १४२) ।

रिड पुं [रिष्ट] ? देव-विशेष, रिष्ट नामक विमान का निवासी देव (णाया १, ८—पत्र १५१) । २ वेत्तम्ब और प्रन-अन नामक इन्द्रों के लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) । ३ एक हस्त सांड, जिसको

श्रीकृष्ण ने मारा था (पह १, ४—पत्र ७२) । ४ पत्ति-विशेष (पउम ७, १७) ।

५ न. रत्न-विशेष (चिद्व ६१५; श्रौष; णाया १, १ टी) । ६ एक देव-विमान (सम ३५) । ७ पुं. फल-विशेष, रोठा (उत्त ३४, ४; सुख ३४, ४) । ८ पुरी द्वी [पुरी] कच्छावती-विजय की राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०; इक) । ९ मणि पुं [मणि] श्याम रत्न-विशेष (चिरि ११६०) ।

रिड्ढा द्वी [रिष्टा] ? महाकच्छ विजय की राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०; इक) । २ पांचवीं नरक-भूमि (ठा ५—पत्र ३८८) । ३ मदिरा, दारू (राज) ।

रिड्ढाभ न [रिष्टाभ] ? एक देव-विमान (सम १४) । २ लौकान्तिक देवों का एक विमान (पत्र २६७) ।

रिड्ढि द्वी [रिष्टि] ? खड्ग, तलवार (दे ७, ६) । २ अशुभ । ३ पुं. रत्न, विवर (संति ३) ।

रिड सक [मण्डय] विभूषित करना । रिडइ (पड) ।

रिण न [च्छण] ? करजा या कर्ज, उधार लिया हुआ धन (गा ११३; कुमा; प्रातू ७७) । २ जल, पानी । ३ दुर्ग, किला । ४ दुर्ग भूमि । ५ आवश्यक कार्य, फरज । ६ कर्म (हे १, १४१; प्राप्र) । देखो अण = ऋण ।

रिणिअ वि [च्छणित] करजदार, अवमर्ण (कुप्र ४३६) ।

रिते अ [च्छते] तिवाय, विना (पिड ३७०) ।

रित्त वि [रिक्त] ? खाली, शून्य (से ७, ११; गा ४६०; धर्मवि ६; श्रौषभा १६६) । २ न. विरेक, अभाव (उत्त २८, ३३) ।

रित्तूडिअ वि [दे] शांति, कड़वाया हुआ (दे ७, ८) ।

रित्थ न [रिक्थ] धन, द्रव्य (उप ५२०; पात्र; सं ६०; सुख ४, ६; महा) ।

रिद्ध वि [च्छद्ध] ऋद्धि-संपन्न (णाया १, १; उवा; श्रौष) ।

रिद्ध वि [दे] पक, पक्का (दे ७, ६) ।

रिद्धि पुं [दे] समूह, राशि (दे ७, ६) ।

रिद्धि द्वी [च्छद्धि] ? संपत्ति, समृद्धि, वैभव (पात्र विपा २, १; कुमा; सुर २, १६८;

प्रातू १२; ६२) । २ वृद्धि । ३ देव-विशेष ।

४ श्रौषवि-विशेष (हे १, १२८; २, ४१; पंचा ८) । ५ हृन्-विशेष (पिंग) । ६ म, हृ वि [भन्] समृद्ध, ऋद्धि-सम्पन्न (श्रौष ६८४; पउम ५, ५६; सुर २, ६८; सुपा २२३) । ७ सुंदरी द्वी [सुन्दरी] एक वणिक्-कन्या (उप ७२८ टी) ।

रिपु देखो रिउ (कण) ।

रिपु न [दे] छुट, पीठ (दे ७, ५) ।

रिभिय न [रिभित] ? एक प्रकार का नाट्य (ठा ४, ४—पत्र २८५) । २ स्वर का धोलन । ३ वि. स्वर-धोलना से युक्त (राज; णाया १, १—पत्र १३) ।

रिमिण वि [दे] रोने की आदतवाला (दे ७, ७; पड) ।

रिरंसा द्वी [रिरंसा] रमण की चाह, मैथुनेच्छा (अजक ७६) ।

रिरिअ वि [दे] लोन (दे ७, ७) ।

रिद्ध अक [दे] शोभना । वड्ड. रिद्धंत (भवि) ।

रिउ देखो रिउ = रिपु (पउम १२; ४१; ४४, ५०; सं १३८; उप पृ ३२१) ।

रिसभ पुं [च्छपभ] ? स्वर-विशेष (ठा रिसह ७—पत्र ३६३) । २ अहोरात्र का अठाइसवां मुहूर्त (सम ५१; सुज्ज १०, १३) । ३ संहत अस्वि-द्वय के ऊपर का बलयाकार वेष्टन-पट्ट; रिसहो य होइ पट्टो (जीवस ४६) । देखो उसभ (श्रौष; हे १, १४१; सम १४६; कम्म २, १६; सुपा २६०) ।

रिसह पुं [च्छपभ] श्रेष्ठ, उत्तम (कुमा) ।

रिसि पुं [च्छपि] मुनि, संत; साधु (श्रौष; कुमा; सुपा ३१; अवि १०१; उप ७६८ टी) । २ वाय पुं [चात] मुनि-हत्या (उप ४६६) ।

रिइ सक [प्र + विश] प्रवेश करना, पठना । रिइइ (पड) ।

री } अक [री] जाना, चलना । रोयइ,  
रीअ } रोमए, रोयते, रोइजा (आचा; सुप्र १, २, २, ५; उत्त २४, ७) । भूका. रोइत्था (आचा) । वड्ड. रोयंत, रोयमाण (आचा) ।

रीइ द्वी [रीति] प्रकार, ढंग, पद्धति; 'तं जणं विडंवंति निचं नवनवरीइइ' (धर्मवि ३२; कण्ण) ।

रीड सक [मण्डय्] अलंकृत करना। रीडइ (हे ४, ११५)।

रीडण न [मण्डन] अलंकरण (कुमा)।

रीड वीन [दे] अवनगणन, अनादर (दे ७, ८)। वी. ङा (पात्र; धम्म ११ टी; पंचा २, ८; वृह १)।

रीण वि [रीण] १ क्षरित, स्तुत। २ पीडित (भत २)।

रीर अक [राज्] शोभना, चमकना, दीपना। रीरइ (हे ४, १००)।

रीरिअ वि [राजित] शोभित (कुमा)।

रीरी वी [रीरी] घातु-विशेष, पीतल (कुप्र ११; सुपा १४२)।

रु वी [रुज्] रोग, बीमारी; अरु (? ह) उवसरगो' (तंडु ४६)।

रुअ अक [रुद] रोना। रुअइ (पड; संक्षि ३६; प्राक ६८; महा)। भवि. रोच्छं (हे ३, १७१)। वक्र. रुअं, रुअंन, रुयमाण (गा २१६; ३७६; ४००; सुर २, ६६; ११२; ४, १२६)। संक्र. रोत्तूण (कुमा; प्राक ३४)। हेक्र. रोत्तुं (प्राक ३४)। क. रोत्तव्व (हे ४, २१२; से ११, ६२)। प्रयो. व्वाविइ (महा), व्वावति (पुष्क ४४७)।

रुअ न [रुत] शब्द, आवाज (से १, २८; णाया १, १३; पव ७३ टी)।

रुअ देखो रुअ = रूप (इक)।

रुअ देखो रुअ = (दे) (औप)।

रुअंती वी [रुदती] वल्ली-विशेष (संबोध ४७)।

रुअंस देखो रुअंस (इक)।

रुअग पुं [रुचक] १ कान्ति, प्रभा (परह १, ४—पत्र ७८; औप)। २ पवंत-विशेष; 'नमुत्तमो होइ पव्वमो द्यगो' (दीव)। ३ द्वीप-विशेष (दीव)। ४ एक समुद्र (सुज १६)। ५ एक विमानावास—देव-विमान (देवेन्द्र १३२)। ६ न. इन्द्रों का एक आभाव्य विमान (देवेन्द्र २६३)। ७ रत्न-विशेष (उत्त ३६, ७६, सुख ३६, ७६)। ८ रुचक पवंत का पाँचवाँ कूट (दीव)। ९ निपव पवंत का आठवाँ कूट (इक)। १० प्पभ न [प्रभ] महाहिमवंत पवंत का एक कूट

(ठा २, ३)। १ वर पुं [वर] १ द्वीप-विशेष (सुज १६)। २ पवंत-विशेष (परह २, ४—पत्र १३०)। ३ समुद्र-विशेष। ४ रुचकवर समुद्र का एक अविष्ठाता देव (जीव ३—पत्र ३६७)। १ वरभइ पुं [वरभद्र] रुचकवर द्वीप का अविष्ठायाक एक देव (जीव ३—पत्र ३६६)। १ वरमहाभइ पुं [वरमहाभद्र] वही अर्थ (जीव ३)। १ वरमहावर पुं [वरमहावर] रुचकवर समुद्र का एक अविष्ठाता देव (जीव ३)। १ वरावभास पुं [वरावभास] १ द्वीप-विशेष। २ समुद्र-विशेष (जीव ३)। १ वरावभासभइ पुं [वरावभासभद्र] रुचकवरावभास द्वीप का एक अविष्ठाता देव (जीव ३)। १ वरावभासमहाभइ पुं [वरावभासमहाभद्र] वही अर्थ (जीव ३)। १ वरावभासमहावर पुं [वरावभासमहावर] रुचकवरावभास नामक समुद्र का एक अविष्ठाता देव (जीव ३)। १ वरावभासवर पुं [वरावभासवर] वही अर्थ (जीव ३—पत्र ३६७)। १ वरोद पुं [वरोद] समुद्र-विशेष (सुज १६)। १ वरोभास देखो वरावभास (सुज १६)। १ वई वी [वती] एक इन्द्राणी (णाया २—पत्र २५२)। १ वी पुं [वी] समुद्र-विशेष (जीव ३—पत्र ३६६)।

रुअगिंद पुं [रुचकेन्द्र] पवंत-विशेष (सम ३३)।

रुअगुत्तम न [रुचकोत्तम] कूट-विशेष (इक)।

रुअण न [रोदन] बदन, रोना (संबोध ४)।

रुअय देखो रुअग (सम ६२)।

रुअरुइआ वी [दे] उक्कण (दे ७, ८)।

रुआ वी [रुज्] रोग, बीमारी (उव, धर्मसं ५६८)।

रुआविअ वि [रोदित] ब्लाया हुआ (गा ३८६)।

रुइ वी [रुचि] १ कान्ति, प्रभा, तेज (सुर ७, ४; कुमा)। २ अनुराग, प्रेम (जो ५१)। ३ आसक्ति (प्रासू १६६)। ४ स्थूहा, अभिलाष। ५ शोभा। ६ बुझा, खाने की इच्छा। ७ गोरोजना (पड)।

रुइअ वि [रुचित] १ अभोष्ठ, पसंद (सुर ७, २४३; महा)। २ पुंन. विमानावास-विशेष, एक देव-विमान (देवेन्द्र १३२)।

रुइअ देखो रुण = रवित (स १२०)।

रुइर वि [रुचिर] १ सुन्दर, मनोरम (पात्र)। २ दीप्र, कान्ति-युक्त (तंडु २०)। ३ पुंन. एक विमानेन्द्रक, देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३१)।

रुइर वि [रोदित्] रोनेवाला। वी. ०री (पि ५६६, गा २१६ अ)।

रुइल वि [रुचिर, ०ल] १ शोभन, सुन्दर (औप; णाया १, १ टी; तंडु २०)। २ दीप्त, चमकता हुआ (परह १, ४—पत्र ७८; सूअ २, १, ३)। ३ पुंन. एक देव-विमान (सम ३८)।

रुइल न [रुचिर, रुचिमत्] एक देव-विमान (सम १५)। १ कंत न [कान्त] एक देव-विमान (सम १५)। १ कूड न [कूट] एक देव-विमान (सम १५)। १ उक्तय न [ध्वज] देवविमान-विशेष (सम १५)। १ प्पभ न [प्रभ] एक देवविमान (सम १५)। १ लेस न [लेश्य] एक देवविमान (सम १५)। १ वणण न [वर्ण] देवविमान-विशेष (सम १५)। १ सिग न [शृङ्ग] एक देवविमान (सम १५)। १ सिट्ट न [सृष्ट] एक देवविमान (सम १५)। १ वत्त न [वत्त] एक देवविमान (सम १५)।

रुइल्लुत्तरवडिसग न [रुचिरोत्तरावत्तं] एक देवविमान (सम १५)।

रुंच सक [रुञ्ज] वई से उसके वीज को अलग करने की क्रिया करना। वक्र. रुंचंत (पिड ५७४)।

रुंचण न [रुञ्जन] वई से कपास को अलग करने की क्रिया (पिड ५८८)।

रुंचणी वी [दे] घरट्टी, दलने का पत्थर-यन्त्र (दे ७, ८)।

रुंज अक [रु] आवाज करना। रुंजइ (हे ४, ५७; पड)।

रुंजग पुं [दे. रुञ्जक] वृत्त, पेड़, गाछ; 'कुहा महीवहा वच्छा रोवगा रुंजगाई अ' (दसनि. १)।

रंजिय न [रघण] शब्द, आवाज, गर्जना (स ४२०)।

रंज देवो रंज। रंज (हे ५, ५७; पङ्)।  
वक्र. रंजत (स ६२; पञ्च १०५, ५५; गउड)।

रंजणया ली [दे] अवज्ञा, अनादर (पिंड २१०)।

रंजणिया ली [दे. रघणिका] रोदन-क्रिया (शाया १, १६—पत्र २०२)।

रंजिअ न [रा] उच्चारण, आवाज; 'रंजिअं अलिबिअं' (पात्र; कुमा)।

रंज पुंन [रुण्ड] विना सिर का घड़, कवच; 'पण्डिया व मुंडरंज' (कुप्र १३५; गउड; भवि; सण)।

रंज पुं [दे] आक्षिप्त, कितव, लुग्राही (दे ७, न)।

रंजिअ वि [दे] सफल (दे ७, न)।

रंज वि [दे] १ विपुल, प्रचुर (दे ७, १४; गा ४०२; सुपा २६३; वजा १२८; १६२)।  
२ विशाल, विस्तोर्ण (विते ७१०; स ७०२; पव ६१; औप)। ३ स्थूल, मोटा, पीन (पात्र)। ४ मुखर, वाचाल (दे ७, १४)।

रंजी ली [दे] विस्तोर्णता, लम्बाई (वजा १६४)।

रंज सक [रुध्] रोकना, अटकाना। रंजइ (हे ४, १३३; २१८)। कर्म. रंजिअइ, रुजइ, रुजए (हे ४, २४५; कुमा)। वक्र. रंजंत (कुमा)। कवच. रुजभंत, रुजभमाण, रुजभंत (पञ्च ७३, २६; से ४, १७; भवि)। क. रंजिअव्य (अभि ५०)।

रंजिअ वि [रुद्र] रोकना हुआ (कुमा)।

रंज पुंन [दे] १ त्वचा, सूक्ष्म छाल (गा ११६; १२०; वजा ४२)। २ उल्लिखन (वजा ४२)।

रंजण न [रोपण] रोपना, वपन कराना, वापन (पिंड १६२)।

रंज देवो रंज (पि २०८)।

रंज देवो रंज। रंजइ (हे ४, २१८; प्राप्र)।  
वक्र. रंजंत (पि ५३५)। क. रंजिअव्य (से ६, ३)।

रंजण न [रोधन] रोक, अटकाव, अवरोध (पण्ड १, १; कुप्र ३७७; गा ६६०)।

रंभय वि [रोधक] रोकनेवाला (स ३८१)।  
रंभाविअ वि [रोधित] रुकनाया हुआ, बंद किया हुआ (आ २७)।

रंभिअ वि [रुद्र] रोकना हुआ (हेका ६६; सुपा १२७)।

रुक्क न [दे] वैल आदि को तरह शब्द करना (अणु २६)।

रुक्किणी देवो रुपिणी (पि २७७)।

रुक्ख पुंन [वृक्ष] पेड़, गाछ, पादप (शाया १, १; हे २, १२७; प्राप्र; उव; कुमा; जी २७; प्रति ६; प्राप् १६८); 'रुक्खाइ, रुक्खाणि' (पि ३५८)। २ संयम, विरति (सुप्र १; ४, १, २५)। 'मूल न [मूल] पेड़ की जड़ (कस)। 'मूलिय पुं [मूलिक] वृक्ष के मूल में रहनेवाला वानप्रस्थ (औप)। 'संथ न [शास्त्र] वनस्पति-शास्त्र (स ३११)। 'उवेद पुं [युवेद] वही अर्थ (विते १७७५)।

रुक्खल ऊपर देवो (पङ्)।

रुक्खिम पुंनो [वृक्षत्व] वृक्षपन (पङ्)।

रुग वि [रुण] भग्न, भागा हुआ (पात्र; गउड; ५६१)।

रुच } सक [दे] पीसना। रुचंति. रुचंति;  
रुच } भूका. रुचसु, रुचंसु; भवि. रुचिस्संति,  
रुचिस्संति (आचा २, १, ६, ५)।

रुचिर देवो रुइर (दे १, १४६)।

रुच अक [रुच्] रुचना, पसन्द पड़ना।  
रुचइ, रुचए (वजा १०६; महा; तिरि १०६; भवि)। वक्र. रुचचंत, रुचमाण (भवि; उप १४३ टो)।

रुच सक [दे] व्रीहि आदि को यन्त्र में निस्तुप करना। वक्र. रुचचंत (शाया १, ७—पत्र ११७)।

रुचि देवो रुइ = रुचि (कप्पु)।

रुच्छ देवो रुक्ख (संति १५)।

रुचिम देवो रुपि (हे २, ५२; कुमा)।

रुज न [रोदन] रुदन, रोना; 'वीहएहाणीसाता, रणएणयो; रुजगणिरं. गेअ' (गा ८४३)।

रुज देवो रुंध। रुजइ (हे ४, २१८)।

रुज देवो रुह = रुह।

रुजंत देवो रुंध।

रुजिअ वि [रुद्र] रोकना हुआ (कुमा)।

रुट्टिया ली [दे] रोटी (सिट्टि ३६)।

रुट्ट वि [रुट्ट] रोप-युक्त (उवा; सुर ३, १२१)। २ पुं. नरकावास-विशेष (वेवट्ट २८)।

रुगरुग न [दे] कलण क्रन्दन (भवि)।

रुगरुग अक [दे] कलण क्रन्दन करना।  
रुगरुगइ (वज्जा ५०; भवि)। वक्र.  
रुगरुगंत (भवि)।

रुगुरुग देवो रुगरुग (पञ्च १०५, ५८)।

रुगुरुणिय वि [दे] कलण क्रन्दनवाला (पञ्च १०५, ५८)।

रुण न [रुदित] रोदन, रोना (हे १, २०६; प्राप्र; गा १८)।

रुते देवो रिते (वव ४)।

रुथिणी देवो रुपिणी (पङ्)।

रुदिअ देवो रुण (नाट—मालती १०६)।

रुद पुं [रुद्र] १ महादेव, शिव (सम्मत् १४५; हेका ५६)। २ शिव-मूर्ति-विशेष (शाया १, १—पत्र ३६)। ३ जिन देव, जिन भगवान् (पञ्च १०६, १२)। ४ पर-मात्मिक देवों को एक जाति (सम २८)। ५ नृप-विशेष, एक वायुदेव का पिता (पञ्च २०, १२२; सम १५२)। ६ ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७७; सुज्ज १०, १२)। ७ अंग-विद्या का जानकार पुरुष (विचार ४८४)। ८ वि. भयंकर, भय-जनक (सम्मत् १४५)। देवो रोह = रुद्र।

रुद देवो रोह = रौद्र (सम ६)।

रुदक्ख पुं [रुद्राक्ष] वृक्ष-विशेष (पञ्च ५३, ७६)।

रुदाणी ली [रुद्राणी] शिव-पत्नी, दुर्गा (समु १५४)।

रुद्र वि [रुद्र] रोकना हुआ (कुमा)।

रुद्र देवो रुह (हे २, ८०)।

रुद्र देवो रुण (सुर ३, १२६)।

रुप्प सक [रोपय्] रोपना, बोना; 'सह्यार-भरियदेसे रूपसि घत्तूरयं तुमं वच्छे' (धर्मवि ६७)।

रुप्प न [रुक्म] १ काञ्चन, सोना। २ लोहा। ३ घत्तूरा। ४ नागकेसर (प्राप्र)। ५ चांदी, रजत (जं ४)।

रूप न [रूप्य] चाँदी, रजत (श्रीप; सुर ३, ६; कप्प)। °कूड पुं [°कूट] रत्नम पर्वत का एक कूट (राज)। °कूलप्पवाय पुं [°कूलप्रपात] द्रव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७३)। °कूला स्त्री [°कूला] १ एक महानदी (ठा २, ३—पत्र ७२; ८०; सम २७; इक)। २ एक देवी। ३ रत्नम पर्वत का एक कूट (जं ४)। °मय वि [°मय] चाँदी का बना हुआ (गाया १, १—पत्र ५२; कुमा)। °भास पुं [°भास] एक ज्योतिष्क महा-ग्रह (ठा २, ३—पत्र ७८)। रूप वि [रौप्य] ह्वा का, चाँदी का (गाया १, १—पत्र २४; उर ८, ४)।

रूपय देखो रूप = रूप्य; 'रूपयं रययं' (पात्र; महा)।

रूपि पुं [रुक्मिन्] १ कौरिण्ड्य नगर का एक राजा, रुक्मिणी का भाई (गाया १, १६—पत्र २०६; कुमा; रुक्मि ४२)। २ कुणाल देश का एक राजा (गाया १, ८—पत्र १४०)। ३ एक वर्षर-पर्वत (ठा २, ३—पत्र ६६; सम १२; ७२)। ४ एक ज्योतिष्क महा-ग्रह (ठा २, ३—पत्र ७८)। ५ देव-विशेष (जं ४)। ६ रत्नम पर्वत का एक कूट (जं ४)। ७ वि. सुवर्णवाला। ८ चाँदी वाला (हे २, ५२; ८६)। °कूड पुंन [°कूट] रत्नम पर्वत का एक कूट (ठा २, ३; सम ६३)।

रूपिणी स्त्री [रुक्मिणी] १ द्वितीय वासुदेव की एक पटरानी (पत्रम २०, १८६)। २ श्रीकृष्ण वासुदेव की एक अग्र-महिषी (पत्रम २०, १८७; पडि)। ३ एक श्रेष्ठि-पत्नी (सुपा ३३४)।

रूपोभास पुं [रूप्यावभास] १ एक महाग्रह (सुज्ज २०)। २ वि. रजत की तरह चमकता (जं ४)।

रुभंत } देखो रुंध।  
रुभमाण }

रुभिणी देखो रूपिणी (पड)।

रुह सक्र [रुहापय] म्लान करना, मलिन करना। °प-रुहाइ जसं (सं ३, ४)।

रुहु पुं [रुहु] १ मृग-विशेष (पत्रम ६, ५६; परह १, १—पत्र ७)। २ वनस्पति-विशेष

(परह १—पत्र ३५)। ३ एक अनायं देश। ४ एक अनायं मनुष्य-जाति (परह १, १—पत्र १४)।

रुह्य अक [रुह्य] १ ध्रुव आवाज करना। २ बारंबार चिल्लाना। वक्र. रुह्येत (स २१३)।

रुल अक [रुल] लेटना। वक्र. रुलंत, रुलित (परह १, ३—पत्र ४५, 'पडियगय-घडतुरयं रुलंतवरसुहडवडसयाइन्' (धर्मवि ८०)।

रुलघुल अक [रु] नीचे साँस लेना, निःश्वास डालना। वक्र. रुलघुलंत (भवि)।

रुव देखो रुअ = रुद। रुवइ (हे ४, २२६; प्राकृ ६८; संक्षि ३६; भवि; महा), रुवामि (कुप्र ६६)। कर्म. रुवइ, रुविज्जइ (हे ४, २४६)।

रुवण न [रुवण] रोता (उप ३३५)।

रुवणा स्त्री. ऊपर देखो (श्रीधमा ३०)।

रुवणा स्त्री [रुवणा] आरोपणा; प्रायश्चित्त का एक भेद (वव १)।

रुविल देखो रुइल (श्रीप)।

रुव्य देखो रुअ = रुद। रुवइ (संक्षि ३६; प्राकृ ६८)।

रुसा स्त्री [रुस] रोप, युस्ता (कुमा)।

रुसिय देखो रुसिअ (पत्रम ५५, १५)।

रुह अक [रुह] १ उत्पन्न होना। २ सक. धाव को सुखाना। रुहइ (नाट)। कर्म. 'जेण विदारियट्टीवि खग्गाइपहारी इमीए पक्खालणोयएणपि परणट्टवेयणं तक्खणा चैव रुभइ ति' (स ४१३)।

रुह वि [रुह] उत्पन्न होनेवाला (आचा)।

रुहण न [रुधन] निवारण (वव १)।

रुहरुह अक [रुह] मन्द मन्द बहना, धामंगि मुक्ति रुहरुहइ वाडं (भवि)।

रुहुरुहय पुं [रुह] उत्कण्ठा (भवि)।

रुअ न [रु. रूत] रुई, तूल (दे ७, ६; कप्प; पव ८४; देवेन्द्र ३३२; धर्मसं ६८०; भग; संबोध ३१)।

रुअ पुं [रुप] १-२ पूर्णभद्र और विशिष्ट नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७)। ३ आकृति, आकार (गा १३२)। ४ वि. सहश, तुल्य (दे ६; ४६)।

°कंतं पुं [°कान्त] १-२ पूर्णभद्र और विशिष्ट नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १)। °कंता स्त्री [°कान्ता] १ भूतानन्द नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी (गाया २—पत्र २५२)। २ एक दिक्कुमारी-महत्तरिका (राज)। °पभ पुं [°प्रभ] पूर्णभद्र और विशिष्ट नामक एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७; १६८)। °पभा स्त्री [°प्रभा] १ भूतानन्द इन्द्र की एक अग्र-महिषी (गाया २—पत्र २५२)। २ एक दिक्कुमारी देवी (ठा ६—पत्र ३६१)। देखो रुव = रूप (गडड)।

रुअंस पुं [रुपांश] १-२ पूर्णभद्र और विशिष्ट इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७; १६८)।

रुअंसा स्त्री [रुपांशा] १ भूतानन्द इन्द्र की एक अग्र-महिषी (गाया २—पत्र २५२)। २ एक दिक्कुमारी देवी (ठा ६—पत्र ३६१)।

रुअग } पुंन [रूपक] १ रूप्या (हे ४;  
रुअय } ४२२)। २ पुं. एक गृहस्थ (गाया २—पत्र २५२)। ३ ह्वा देवी का सिंहासन (गाया २—पत्र २५२)। °वडिसय न [°वतंसक] ह्वा देवी का भवन (गाया २)। °सिरी स्त्री [°श्री] एक गृहस्थ स्त्री (गाया २)। °वई स्त्री [°वती] भूतानन्द नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी (गाया २)। देखो रुवय = रूपक।

रुअरुइआ [रुह] देखो रुअरुइआ (पड)।

रुआ स्त्री [रुपा] १ भूतानन्द इन्द्र की एक अग्र-महिषी (गाया २—पत्र २५२)। २ एक दिक्कुमारी देवी (ठा ४, १—पत्र १६८)।

रुआमाला स्त्री [रुपमाला] छन्द-विशेष (पिंग)।

रुआर वि [रूपकार] मूर्ति बनानेवाला, 'मोत्तुमजोगं जोगे दलिए रुंधं करेइ ह्यारो' (विस १११०)।

रुआवई स्त्री [रुपवती] एक दिक्कुमारी देवी (ठा ४, १—पत्र १६८)।

रुड वि [रुड] १ परंपरागत, रुढि-सिद्ध। २ प्रसिद्ध; 'रुडकमेण सञ्जे नराहिवा तथ्य उवविट्ठा' (उप ६४८ टी)। ३ प्रगुण; तंदुस्त (पात्र)।

रुड वि [रुड] उगा हुआ, उत्पन्न (दस ७, ३५) ।

रुडि बी [रुडि] परम्परा से चली आती प्रसिद्धि, 'पांसहसहोखडीए एत्य पव्वाणुवायधो भणियो' (सुपा ६१६; कप्पु) ।

रूप पुं [रूप] पशु, जानवर (मृच्छ २००) ।  
रुअ = रूप (ठा ६—पत्र ३६१) ।

रूपि पुं [रूपिन्] सौनिक, कसाई (मृच्छ २००) ।

रुरुइय न [दे] उत्सुकता, रणरणक (पात्र) ।

रुव पुंन [रूप] १ आकृति, आकार (साया १, १; पात्र) । २ सौन्दर्य, सुन्दरता (कुमा; ठा ४, २; प्रासू ४७; ७१) । ३ बर्ण, शुक्ल आदि रंग (श्रीम; ठा १; २, ३) । ४ मूर्ति (विसे १११०) । ५ स्वभाव (ठा ६) । ६ शब्द, नाम । ७ श्लोक । ८ नाटक आदि दृश्य काव्य (हे १, १४२) । ९ एक की संख्या, एक (कम्म ४, ७७; ७८; ७९; ८०; ८१) । १०—११ रूपवाला, बर्णवाला (हे १, १४२) । १२—देखो रुअ, रूप = रूप ।  
रुअ-कंता देखो रुअ-कंता (ठा ६—पत्र ३६१; इक) ।  
रुअ-कंता पुं [रुअ-कंता] धर्मपाठक (व्यव० भा० गा० ६१४) ।  
रुअ-धार वि [रुअ-धार] रूप-धारी; 'जलयरमज्जगएणं अणे-गमच्छाडरुववारेणं' (सा ६) ।  
रुअ-प्यभा देखो रुअ-प्यभा (इक) ।  
रुअ-वंत देखो वंत (पउम १२, ५७; ६१, २३) ।  
रुअ-वई बी [रुअ-वई] १ भूतानन्द नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ६—पत्र ३६१) । २ सुख नामक भूतेन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ४, १—पत्र २०४) । ३ एक द्विचक्रमारी महत्तरिका (ठा ६) ।  
रुअ-वंत, रुअ-वि वि [रुअ-वंत] रूपवाला, सुख (था १०; उवा; उप पृ ३३२; सुपा ४७४; उव) ।

रुअगा पुंन [रुअ-गा] १ रूपगा (उप पृ २८०; धम्म ८ टी; कुप्र ४१४) २ साहित्य-प्रसिद्ध एक अलंकार (सुर १, २६; विसे ६६६ टी) ।  
देखो रुअग = रूपग ।

रुअमिणी बी [दे] लावती बी (दे ७, ६) ।

रुअय देखो रुअगा (कुप्र १२३; ४१३; भास ३४) ।

रुअसिणी देखो रुअमिणी (पड्) ।

रुअ देखो रुआ (इक) ।

रुअि वि [रुअिन्] रूपवाला (आचा; भग; स ८३) ।

रुअि पुंन [दे] गुच्छ-विशेष; अकं-बुद्ध, आक का पेड़ (परण १—पत्र ३२; दे ७, ६) ।

रुअस अक [रुअ] गुस्ता करना । रुअइ, रुअए (उव; कुमा; हे ४, २३६; प्राकृ ६८; पड्) । कर्म. रुअिजइ (हे ४, ४१८) । हेक. रुअिउं, रुअेउं (हे ३, १४१; पि ५७३) । क. रुअिअन्व, रुअेयन्व (गा ४६६; परह २, ५—पत्र १५०; सुर १६, ६४) । प्रयो., संक. रुअविअ (कुमा) ।

रुअण न [रुअण] १ रोप, गुस्ता (गा ६७५; हे ४, ४१८) । २ वि. गुस्ताबोर, रोप करने-वाला (सुख १, १४; संबोध ४८) ।

रुअिअ वि [रुअिअ] रोप-युक्त (सुख १, १३; १६) ।

रुअ [रुअ] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ परिहास । २ अविलेप (संक्षि ४७) । ३ संभाषण (हे २, २०१; कुमा) । ४ आक्षेप (संक्षि ३८) । ५ तिरस्कार (पत्र ३८) ।

रुअ पुं [रुअिअ] वीर्य, युद्ध (राज) ।

रुअव सक [रुअव] छोड़ना, त्यागना । रुअवइ (हे ४, ६१) ।

रुअविअ वि [रुअविअ] छोड़ा हुआ, त्यक्त (कुमा; दे ७, ११) ।

रुअविअ वि [दे. रुअिअ] क्षणीकृत, शून्य किया हुआ, खाली किया हुआ (दे ७, ११; पात्र; से ११, २) ।

रुआ बी [रुआ] १ धन । २ नुबर्ण, तोना (पड्) ।

रुअइ वि [रुअिअ] रिक्त किया हुआ (से ७, ३१) ।

रुअिअ वि [दे] १ आक्षिप्त । २ लोभ । ३ ब्रीडित, लजित (दे ७, १४) ।

रुअकार पुं [रुअकार] 'रुअ' शब्द, 'रुअ' की आवाज (पत्र ३८) ।

रुअि देखो रिअि (संक्षि ३) ।

रुअि बी [रुअि] महापि स्थूलभद्र की एक भगिनी, एक जैन साध्वी (कण्य; पडि) ।

रुअि पुंन [दे] पड्ड, कदम (दे ७, ६) ।

रुअि पुंन [रुअि] १ रज, धूल (कुमा) । २ पराग (स्वप्न ७६) ।

रुअि बी [रुअिका] श्लोप-विशेष (परण १—पत्र ३६) ।

रुअि पुं [रुअि] १ 'रुअ' अक्षर, रकार (कुमा) । २ वि. दुष्ट । ३ अवम, नीच; ४ क्रूर, निर्दय । ५ कृपण, गरीब (हे १, २३६; पड्) ।

रुअिज अक [रुअिज] अतिशय शोभना । वक. रुअिजमाण (साया १, २—पत्र ७८; १, ११—पत्र १७१) ।

रुअि सक [रुअिअ] सराबोर करना । वक. रुअिअ (कुमा) ।

रुअि बी [दे] रत्न, स्रोत, प्रवाह (राज) ।

रुअिअनव्यक्त पुं [रुअिअनव्यक्त] ग्राम्य नाम-हस्ती के शिष्य एक जैन मुनि (अंदि ५१) ।

रुअिअ पुं [रुअिअ] स्वर-विशेष, रैवत स्वर (अणु १२८) ।

रुअिअ न [रुअिअ] एक उद्यान का नाम (कण्य) ।

रुअिअ बी [रुअिका] नूतन-ग्रह विशेष (सुख २, १६) ।

रुअिअ बी [रुअिका] १ वलदेव की बी (कुमा) । २ एक आविका का नाम (ठा ६—पत्र ४५५; सम १५४) । ३ एक नक्षत्र (सम ५७) ।

रुअिअ बी [दे. रुअिका] मातृका, देवी (दे ७, १०) ।

रुअिअ पुं [रुअिअ] सूर्य का एक पुत्र; देव-विशेष; रैवततणुभवा इव अस्सकित्तोरा सुलखण्णिणो (धर्मवि १४२; सुपा ५६) ।

रुअिअ वि [दे] उपालव (दे ७, १०) ।

रुअिअ पुं [रुअिअ] व्यक्ति-वाचक नाम, एक साधारण काव्य-ग्रंथ का कर्ता (धर्मवि १४२) ।

रुअिअ न [दे] प्रणाम, नमस्कार (दे ७, ६) ।

रुअिअ पुं [रुअिअ] गिरनार पर्वत (साया १, ५—पत्र ६६; अंत; कुप्र १८) ।

रुअिअ पुं [रुअिअ] स्वर-विशेष (अणु १२७) ।

रुअिअ बी [दे] बालकावर्त, धूल का आवर्त (दे ७, १०) ।

रुअिअ बी [रुअिका] नदी-विशेष, नर्मदा (गा ५७८; पात्र; कुमा; प्रासू ६७) ।

रेसणिआ } ली [दे] ? करोटिका, एक  
रेसणी } प्रकार का कात्त्य-भाजन (पात्र;  
दे ७, १५) । २ अस्ति-निकोच (दे ७, १५) ।

रेसन्मि देखो रेसन्मि; जो उण सद्धा-रहिओ  
दाणं देइ जमकिन्तिरेसन्मि' (स १५७) ।

रेसि (अप) देखो रेसि (हे ४, ४२५; सण) ।  
रेसिअ वि [दे] छिन्न, काटा हुआ (दे ७,  
६) ।

रेसि (अप) नीचे देखो (हे ४, ४२५) ।

रेसिन्मि अ. निमित्त, लिए, वास्तु; 'दंसण-  
नाणचरिस्ताण एस रेसिन्मि सुपसत्थो' (पंचा  
१६, ४०) ।

रेह अक [राज] दीपना, शोभना, चमकना ।

रेहइ, रेहए (हे ४, १००; धात्वा १५०;  
महा) । वक्र. रेहंत (कण) ।

रेहा ली [रेखा] ? चिह्न-विशेष, लकीर  
(शोध ४८६; गडड; सुपा ४१; वजा ६४) ।  
२ वंक्ति, श्रेणि (कप्प) । ३ छन्द-विशेष  
(सिग) ।

रेहा ली [राजना] शोभा, दीप्ति (कप्प) ।

रेहिअ न [दे] छिन्न पुच्छ, कटी हुई पूँछ  
(दे ७, १०) ।

रेहिअ वि [राजित] शोभित (सुर १०,  
३८६) ।

रेहिर वि [रेखावत्] रेखावाला (हे २,  
१५६) ।

रेहिर } वि [राजित] शोभनेवाला (सुर  
रेहिइ } १, ५०; सुपा ५६), 'नये नये-  
हिल्ले' (उप ७२८ टी) ।

रेहिइ देखो रेहिर = रेखावत् (उप ७२८  
टी) ।

रोअ देखो रुअ = रुद । रोअइ (संज्ञि ३६; प्राक  
३८) । वक्र. रोअंत, रोयमाण (गा ५४६;  
उप पृ १२८; सुर २, २२६) । हेक. रोडं  
(संज्ञि ३७) । क. रोअत्तअ, रोइअव्व (सि  
३, ४८; गा ३४८; हेका ३३) ।

रोअ देखो रुच = रुच् । रोपइ, रोपए (भग;  
उव), 'रोएइ जं पड्डणं तं चव कुणंति सेवगा  
निच्चं' (रंभा) । वक्र. रोयंत (आ ६) ।

रोअ सक [रोचय्] ? रुचि करना । २  
पसन्द करना, चाहना । रोयइ, रोएमि, रोएहि  
(उत्त १८, ३३; भग) । संक. रोयइत्ता  
(उत्त २६, १) ।

रोअ सक [रोचय्] निर्णय करना । रोअए  
(दस ५, १, ७७) ।

रोअ पुं [रोच] रुचि,

'दुक्करोया विउत्ता वाला

भणियेपि नेव दुक्कंति ।

तो मज्झिमवुट्ठीणं हियत्वमेसो

पयात्तो मे' (चिइय २६०) ।

रोअ पुं [रोग] ग्रामय, बीमारी (पात्र) ।

रोअग वि [रोचक] ? रुचि-जनक । २ न.  
सम्यक्त्व का एक भेद (संबोध ३५; सुपा  
५५१) ।

रोअण न [रोदन] रोना, रुदन (दे ५, १०;  
कुप २३५; २८६) ।

रोअण पुं [रोचन] ? एक दिग्गहस्ति-कूट  
(इक) । २ न. गोरोचन (गडड) ।

रोअणा ली [रोचना] गोरोचन (सि ११,  
४५; गडड) ।

रोअणिआ ली [दे] डाकिनो, डाइन (दे ७,  
१२; पात्र) ।

रोअत्तअ देखो रोअ = रुद ।

रोआविअ वि [रोदित] ब्लाया हुआ (गा  
३५७; सुपा ३१७) ।

रोइ वि [रोगिन्] रोगवाला, बीमार (गडड) ।

रोइ देखो रुइ = रुचि; 'अवि सुंदरेवि दिएणे  
दुक्कररोई कलहमाई' (पिड ३२१) ।

रोइअ वि [रोचित] ? पसंद आया हुआ  
(भग) । २ त्रिकोपित (ठा ६—पत्र ३५५) ।

रोइर वि [रोदित्] रोनेवाला (गा ३८६;  
पड) ।

रोंकण वि [दे] रंक, गरीब (दे ७, ११) ।

रोंच सक [पिप्] पीसना । रोंचइ; (हे ४,  
१८५) ।

रोक्कअ वि [दे] प्रोक्षित, अति सिक (पड)

रोक्कणि } वि [दे] ? श्रुंगी, श्रुंगवाला ।

रोक्कणिअ } २ श्रुंग, निर्देय (दे ७, १६) ।

रोग पुं [रोग] ? बीमारी, व्याधि (उवा;  
पएह १, ४) । २ एक ब्राह्मण-जातीय श्रावक  
(उप ५३६) ।

रोगि वि [रोगिन्] बीमार (सुपा ५७६) ।

रोगिअ वि [रोगिक, °त] ऊपर देखो (सुख  
१, १४) ।

रोगिणिआ ली [रोगिणिआ] रोग के कारण  
ली जाती बीजा (ठा १०—पत्र ४७३) ।

रोगिइ देखो रोगि (प्राभा) ।

रोघस वि [दे] रंक, गरीब (दे ७, ११) ।

रोच देखो रोंच । रोच्चइ (पड) ।

रोज्म पुं [दे] ऋषय, पशु-विशेष; गुजराती में  
'रोम' (दे ७, १२; विपा १, ४; पात्र) ।

रोट्ट पुंन [दे] ? तंडुल-पिष्ट, चावल आदि का  
आटा, पिसान, गुजराती में 'लोट' (दे ७,  
११; शोध ३६३; ३७४; पिड ४४; वृह १) ।

रोट्टा पुं [दे] रोटी, रोट (महा) ।

रोड सक [दे] ? रोकना, अटकाना । २  
अनादर करना । ३ हैरान करना । रोडिसि (स  
५७५) । कवक, रोडिजंत (उप पृ १३३) ।

रोड न [दे] घर का मान, गृह-प्रमाण (दे  
७, ११) ।

रोडी ली [दे] ? इच्छा, अभिलाषा । २ ब्रणी  
की शिको (दे ७, १५) ।

रोत्तव्व देखो रुअ = रुद ।

रोद पुं [रोद्र] ? अहोरात्र का पहला मुहूर्त  
(सम ५१) । २ एक नृपति, तृतीय बलदेव  
श्रीर वासुदेव का पिता (ठा ६—पत्र ४४७) ।

३ अलंकार-शास्त्र-प्रसिद्ध नव रसों में एक रस  
(अणु) । ४ वि. दारण, भयंकर, भोपण  
(ठा ४, ४; महा) । ५ न. ध्यान-विशेष,  
हिंसा आदि क्रूर कर्म का चिन्तन (शोप) ।

रोद पुं [रुद्र] अहोरात्र का पहला मुहूर्त  
(सुज्ज १०, १३) । देखो रुद = रुद ।

रोद्ध वि [दे] ? कृणितान । २ न. मल (दे  
७, १५) ।

रोम पुंन [रोमन्] लोम, बाल, रोंग्रा (शोप;  
पात्र; गडड) । 'कूव पुं' [कूप] लोम का  
छिद्र (णाय १, १—पत्र १३; सुर २,  
१०१) ।

रोम न [रोम] जान में होता लवण (दस  
३, ८) ।

रोमंच पुं [रोमाञ्च] रोंग्रा का खड़ा होना,  
भय या हर्ष से रोंग्रा का उठ जाना, पुलक  
(कुमा; काल; भवि; सण) ।

रोमंचइअ } वि [रोमाञ्चित] पुलकित,  
रोमंचिअ } जिसके रोम खड़े हुए हों वह  
(पउम ३, १०४; १०२, २०३; पात्र;  
भवि) ।



रोमंथ पुं [रोमन्थ] पगुराना, चवाई हुई वस्तु का पुनः चवाना, पागुर (से ६, ८७; पात्र; सण)।

रोमंथ } अक [रोमन्थय्] चवाई हुई  
रोमंथाअ } चीज का फिर से चवाना, पगुराना, जुगाली करना। रोमंथइ (हे ४, ४३)।  
वक्र. रोमंथाअमाण (चार ७)।

रोमग } पुं [रोमक] १ अनायं देश-विशेष,  
रोमय } रोम देश (पत्र २७४)। २ रोम देश में रहनेवाली मनुष्य-जाति (पणह १, १—पत्र १४)।

रोमय पुं [रोमज] पक्षि-विशेष, रोम की पांखवाला पक्षी (जी २२)।

रोमराइ व्री [दे] जघन, नितम्ब (दे ७, १२)।

रोमलयासय न [दे] पेट, उदर (दे ७, १२)।

रोमस वि [रोमश] रोम-युक्त, रोमवाला (दे ३, ११; पात्र)।

रोमूसल न [दे] जघन, नितम्ब (दे ७, १२)।

रोर पुं [रोर] चौथी नरक-भूमि का एक नरकावास (ठा ४, ४—पत्र २६५)।

रोर वि [दे] रूंक, गरीब, निर्धन (दे ७, ११; पात्र; सुर २, १०५; सुपा २६६)।

रोरु पुं [रोरु] सातवीं नरक-पृथिवी का एक नरकावास (दिवेन्द्र २४; इक)।

रोरुअ पुं [रोरुक, रौरव्] १ रत्नप्रभा नरक-पृथिवी का दूसरा नरकेन्द्रक—नरकावास-विशेष (दिवेन्द्र ३)। २ रत्नप्रभा का तेरहवां नरकेन्द्रक (दिवेन्द्र ५)। ३ सातवीं नरक-पृथिवी का एक नरकावास—नरक-स्थान (ठा ५, ३—पत्र ३४१; सम ५८; इक)। ५ चौथी नरक-भूमि का एक नरकावास (ठा ४, ४—पत्र २६५)।

रोल पुं [दे] १ कलह, झगड़ा (दे ७, १५)। २ ख, कोलाहल, कलकल आवाज (दे ७, १५; पात्र; कुमा; सुपा ५७६; चंद्रय १८४; मोह ५)।

रोलं व पुं [दे. रोलम्ब] भ्रमर; मधुकर (दे ७, २; कुप्र ५८)।

रोला व्री [रोला] छन्द-विशेष (पिंग)।  
रोव देखो रूअ=रुद्। रोवइ (हे ४, २२६; संलि ३६; प्राकृ ६८; पड; महा; सुर १०, १७१; भवि)। वक्र. रोवंत, रोवमाण (पउम १७, ३७; सुर २, १२४; ६, २३५; पउम

११०, ३५)। संकृ. रोविऊण (पि ५८६)।  
हेक. रोविउं (स १००)।

रोव पुं [दे. रोप] पौधा, गुजराती में 'रोपो' (सम्मत १४४)।

रोवण न [रोदन] रोना (सुर ६, ७६)।

रोवण न [रोपण] वपन, बीज बोना (वव १)।

रोवाविअ देखो रोआविअ (वज्जा ६२)।

रोविअ वि [रोपित] १ बोया हुआ। २ स्थापित (से १३, ३०)।

रोविंदय न [दे] गेय-विशेष, एक प्रकार का गान (ठा ४, ४—पत्र २८५)।

रोविर देखो रोइर (दे ७, ७, कुमा; हे २, १४५)।

रोविर वि [रोपयित्] बोनेवाला (हे २, १४५)।

रोस देखो रूस। रोसइ (?) (धात्वा १५०)।

रोस पुं [रोप] गुस्ता, क्रोध (हे २, १६०; १६१)। इत्त, इंत वि [वत्] रोप- (संलि २०; प्राप्र)।

रोसण वि [रोपण] रोप करनेवाला, गुस्ताखोर (उप १४७ दो; सुख १, १३)।

रोसविअ वि [रोपित] कोपित, कुपित किया हुआ (पउम ११०, १३)।

रोसाण सक [मृज्] मार्जन करना, शुद्ध करना। रोसाणइ (हे १, १०५; प्राकृ ६६; पड)।

रोसाणिअ वि [मृष्ट] शुद्ध किया हुआ, मार्जित (पात्र; कुमा; पिंग)।

रोसिअ देखो रोसविअ (पउम ६६, ११; भवि)।

रोह अक [रूह] उत्पन्न होना। रोहंति (गउड)।

रोह देखो रूध। संकृ. रोहिऊण, रोहेउं (काल; वृह ३)।

रोह पुं [रोध] १ घेरा, नगर आदि का सैन्य से वेष्टन (णाय १, ८—पत्र १४६; उप पृ ८४; कुप्र १५८)। २ रूकावट, रोक, अटकाव (कुप्र १; द्रव्य ४६)। ३ कैद (पुंफ १८६)।

रोह पुं [रोधस्] तट, किनारा (पात्र)।

रोह पुं [रोह] १ एक जैन मुनि (भग)। २ प्ररोह, व्रण आदि का सूख जाना (दे ६, ६५)। ३ वि. रोहक, रोहण-कर्ता (भवि)।  
रोह पुं [दे] १ प्रमाण। २ नमन। ३ मार्गण (दे ७, १६)।

रोहग वि [रोधक] घेरा डालनेवाला, अटकाव करनेवाला; 'रोहगसंजुतीए रोहिगो कुमारेण' (स ६३५); 'रोहगसंजुती उण कीरउ' (सुर १२, १०१)।

रोहग देखो रोह=रोव (स ६३५; सुर १२, १०१)।

रोहग पुं [रोहक] एक नट-कुमार (उप पृ २१५)।

रोहगुत्त पुं [रोहगुत्त] १ एक जैन मुनि (कण्प)। २ त्रैशिक मत का प्रवर्तक एक आचार्य (विसे २४५२)।

रोहण न [रोधन] १ अटकाव (आरा ७२)। २ वि. रोकनेवाला (द्रव्य ३४)।

रोहण व [रोहण] १ चढ़ना, आरोहण (सुपा ४३८; कुप्र ३६६)। २ उत्पत्ति (विसे १७५३)। ३ पुं. पवंत-विशेष (सुपा ३२; कुप्र, ६)। ४ एक दिग्हस्ति-कूट; (इक)।

रोहिअ [दे] देखो रोअ (दे ७, १२; पात्र; पणह १, १—पत्र ७)।

रोहिअ वि [रोधित] घेरा हुआ, 'रोहियं पाडलिपुरं तेण' (वमंवि ४२; कुप्र ३६६; स ६३५)।

रोहिअ वि [रोहित] १ सुखाया हुआ (धाव) (उप पृ ७६)। २ पुं. द्वीप-विशेष (जं ४)। ३ पुं. मत्स्य-विशेष (स २५७)। ४ न. तुण-विशेष (पणण १—पत्र ३३)। ५ कूट-विशेष (ठा २, ३; ८)।

रोहिअंस पुं [रोहितांश] एक द्वीप (जं ४)।

रोहिअंस } व्री [रोहितांशा] एक नदी  
रोहिअंसा } (सम २७; इक)। पवाय पुं  
[प्रपात] द्रह-विशेष (ठा २, ३; जं ४)।

रोहिअप्पवाय पुं [रोहिताप्रपात] द्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७२)।

रोहिआ व्री [रोहित, रोहिता] एक नदी (सम २७; इक; ठा २, ३—पत्र ७२; ८०)।

रोहिआ व्री [रोहिदंशा] एक नदी (इक)।

रोहिणिअ पुं [रोहिण्य] एक प्रसिद्ध चोर का नाम (आ २७)।

रोहिणी स्त्री [रोहिणी] १ नक्षत्र-विशेष (सम १०)। २ चन्द्र की पत्नी (श्रा १६)। ३ औपधि-विशेष (उत्त ३४, १०; मुर-१०, २२३)। ४ भविष्य में भारतवर्ष में तीर्थकर होनेवाली एक आदिका (सम १५४)। ५

नववें बलदेव का माता का नाम (सम १५२)। ६ एक विद्या-देवी (संति ५)। ७ शक्रेन्द्र की एक पटरानी (ठा ८—पत्र ४२६)। ८ सत्पुरुष नामक किपुल्येन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ४, १—पत्र २०४)।

९ शक्रेन्द्र के एक लोकपाल की पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४)। १० तप-विशेष (पत्र २७१; पंचा १६, २३)। ११ गो, गैया (पात्र)। १२ रमण पुं [रमण] चन्द्रमा (पात्र)। रोहीडग न [रोहीतक] नगर-विशेष (संवा ६८)।

॥ इअ सिरिपाइअसदमहण्णवाम्मि अराराइसदसंकरणो

तेत्तोसइमो तरंगो समतो ॥

## ल

ल पुं [ल] मूर्ध-स्वानीय अन्तस्य व्यञ्जन वर्ण-विशेष (पात्र)।

लइ अ. ले, अच्छा, ठीक (भवि)।

लइ देखो लय = ला।

लइअ वि [दे. लगित] १ परिहित, पहना हुआ। २ अंग में पिनद्ध (दे ७, १८; पिड ५६१; भवि)।

लइअह पुं [दे] वृषभ, बैल (दे ७, १६)।

लइआ स्त्री [लतिका, लता] देखो लया (नाट—रत्ना ७; गडड; उप ७६८ टी)।

लइणा } स्त्री [दे] लता, बल्ली (पड; दे  
लइणी } ७, १८)।

लउअ पुं [लकुच] वृक्ष-विशेष, बड़हल का गाछ (औप; पि ३६८)।

लउड } पुं [लकुट] लकड़ी, लाठी, डंडा, लउर,  
लउल } यष्टि (दे ७, १६; मुर २, ८; औप)।

लउस } पुं [लकुश] १ अनायं देश-विशेष  
लउसय } (पत्र २७४; इक)। २ पुंस्त्री. लकुश  
देश का निवासी मनुष्य। स्त्री. °सिया (शाया  
१, १—पत्र ३७; औप; इक)।

लंका स्त्री [लङ्का] नगरी-विशेष, सिंहलद्वीप की राजधानी (सं ३, ६२; पत्र ४६, १६; कप्प)। °लय वि [लय] लंका-निवासी (वजा १३०)। सुंदरी स्त्री [सुन्दरी] हनुमान की एक पत्नी (पत्र ५२, २१)। °सोग

पुं [°शोक] राक्षस वंश का एक राजा (पत्र ५, २६५)। °हिव पुं [°धिप] लंका का राजा (उप पृ ३७५)। °हिवइ पुं [°धिपति] वही अर्थ (पत्र ४६, १७)।

लंका स्त्री [दे] शाखा (वज्जा १३०)।

लंख } पुंस्त्री [लङ्ख] बड़े बंस के ऊपर लेल  
लंखग } करनेवाली एक नट-जाति (शाया १,  
१—पत्र २, पएह २, ५—पत्र १३२; औप;  
कप्प)। स्त्री. °खिगा (उप १०१४)।

लंगल न [लाङ्गल] हल, 'क्षित्तुसु वंहति लंगलाए सया' (वर्मवि २४; हे १, २५६, पड ८०)।

लंगलि पुं [लाङ्गलिन्] बलभद्र, बलदेव (कुमा)।

लंगलिं } स्त्री [लाङ्गली] बल्ली-विशेष,  
लंगली } शारदी लता (कुमा)।

लंगिम पुंस्त्री [दे] १ जवानी, यौवन। २ ताजापन, नवीनता; 'पिसुणइ तणुलट्ठो लंगिमं चंगिमं च' (कप्प)।

लंगूल न [लाङ्गूल] पुच्छ, पूँछ (हे १, २५६; पात्र; कप्प; कुमा)।

लंगूलि वि [लाङ्गूलिन्] पुच्छवाला, पशु (कुमा)।

लंगोल देखो लंगूल (सुज्ज १०, ८)।

लंघ सक [लङ्घ, लङ्घय्] १ लांघना, अतिक्रमण करना। २ भोजन नहीं करना। लंघइ, लंघइ (महा; भवि)। कर्म. लंघिज्जइ (कुमा)। वक्र. लंघंत, लंघयंत (सुपा २७१; पत्र ६७, २१)। संक. लंघित्ता, लंघिऊण (महा)। हेक. लंघेउं (पि ५७३)। क. लंघणिज्ज (सं २, ४४), लंघ (कुमा १, १७)।

लंघण न [लङ्घन] १ अतिक्रमण (सुर ५, १६२)। २ अ-भोजन (उप १३५ टी)।

लंघि वि [लङ्घिन्] लंघन करनेवाला (कप्प)।

लंघिअ वि [लङ्घित] जिसका लंघन किया गया हो वह (गडड)।

लंघ पुं [दे] कुक्कुट, मुर्गा (दे ७, १७)।

लंघा स्त्री [लङ्घा] घूस, रिशवत, उत्कोच (पात्र; पएह १, ३—पत्र ५३; दे १, ६२; ७, १७; सुपा ३०८)।

लंघिह वि [लङ्घिक] घूसखोर, रिशवत ले कर काम करनेवाला (वव १)।

लंघ सक [लङ्घ] १ भांगना, तोड़ना। २ कर्लकित करना। कर्म. लंघिज्जइ (दसनि ८, १४)।

लंघ पुं [लङ्घ] चोरों की एक जाति (विपा १, १—पत्र ११)।

लंछण न [लञ्छन] १ चिह्न, निशानी (पात्र) । २ नाम । ३ अंकन, चिह्न करना (हे १, २५; ३०) ।

लंछणा स्त्री [लञ्छना] चिह्न करना (उप ५२२) ।

लंछिअ वि [लञ्छित] चिह्नित, कृत-चिह्न (पव १५४; णाया १, २—पत्र ८६; ठा ३, १; कस; कप्) ।

लंछुअ वि [दे. लण्डित] उत्क्षिप्त, 'चंडम्प-वादलंछुओ विअ वरंडो पव्वदादो दूरं आरो-विअ पाडिदो म्हि' (चार ३) ।

लंतक पुं [लान्तक] १ एक देवलोक, लंतग छठ्ठा देवलोक (भग. श्रौप; अंत; लंतय इक) । २ एक देवविमान (सम २७; देवेन्द्र १३४) । ३ षष्ठ देवलोक के निवासी देव । ४ षष्ठ देवलोक का इन्द्र (राज; ठा २, ३—पत्र ८५) ।

लंद पुंन [लन्द] काल, समय (कप्; पव) ७०) ।

लंदय पुंन [दे] कलिव्दक, गो आदि का सादन-यात्र (पव २) ।

लंपड वि [लम्पट] लोलुप, लालची, लुब्ध (पात्र; सुपा १०७; ५६६; सुर ३, १०) ।

लंपाग पुं [लम्पाक] देश-विशेष (पउम ६८, ५६) ।

लंपिक्ख पुं [दे] चोर, तस्कर (दे ७, १६) ।

लंघ सक [लम्] १ सहारा लेना, आलम्बन करना । २ अक. लटकना । लंघेइ (महा) । वक. लंघंत, लंघमाण (श्रौप; सुर ३, ७१; ४, २४२; कप्; वसु) । संक. लंघिऊण (महा) ।

लंघ वि [लम्] लम्बा, दीर्घ; 'उट्ठा उट्ठस्स चैव लंघा' (उवा; णाया १, ८—पत्र १३३) ।

लंघ पुं [दे] गोवाट, गो-वाड़ा (दे ७, २६) ।

लंघअ न [लम्घक] ललन्तिका, नानि-पर्यन्त लटकती माला आदि (स्वप्न ६३) ।

लंघणा स्त्री [लम्घना] रणजु, रस्ती (स १०१) ।

लंघा स्त्री [दे] १ बल्लरी, लता (पड) । २ केश, बाल (पड; दे ७, २६) ।

लंघाली स्त्री [दे] पुष्प-विशेष (दे ७, १६) ।

लंघि वि [लम्घिन्] लटकता (गडड) ।

लंघिअ वि [लम्घित] १ लटकता हुआ लंघिअंघ (मा ५३२; सुर ३, ७०) । २ पुं वानप्रस्थ का एक भेद (श्रौप) ।

लंघिर वि [लम्घितृ] लटकनेवाला (कुमा; गडड) ।

लंघुअ वि [लम्घुक] १ लम्बी लकड़ी के अन्त भाग में बँधा हुआ मिट्टी का डेला । २ भीत में लगा हुआ डँटों का समूह (मृच्छ ६) ।

लंघुत्तर पुंन [लम्घोत्तर] कायोत्सर्ग का एक दोष, चोलपट्टे को नाभि-मंडल से ऊपर रख-कर और जानु को चोलपट्टे से नीचे रख कर कायोत्सर्ग करना (चैदय ४८४) ।

लंघूस पुंन [दे. लम्घूष] कन्दुक के आकार का एक आभरण, 'छतं चमर-पडाया दप्पण-लंघूसया वियाणं च' (पउम ३२, ७६; ६६, १२) ।

लंघोदर वि [लम्घोदर] १ बड़ा पेटवाला लंघोयर (सुज १, १४; उवा) । २ पुं. गणपति, गणेश (धा १२; कुप्र ६७) ।

लंभ सक [लम्] प्राप्त करना, 'अज्जेवाहं न लंभामि अवि लामो सुए सिया' (उत्त २, ३१) । नवि. लंभिसं (पि ५२५) । कर्म. लंभीअदि, लंभीआमो (शौ) (पि ५४१) । संक. लंभिअ, लंभित्ता (मा १६; नाट—चैत ६१; ठा ३, २) ।

लंभ सक [लम्भय] प्राप्त करना । संक. लंभिअ (नाट—चैत ४४) । क. लंभइद्वव (शौ) । लंभणिज्ज, लंभणीअ (मा ५१; नाट—मालती ३६, चैत १२५) ।

लंभ पुं [लाम] प्राप्ति (पउम १००, ४३; से ११, ३१; गडड; सिरि ८२२; सुपा ३६४) । देखो लाह = लाभ ।

लंभण पुं [लम्भन] मत्स्य की एक जाति (विपा १, ८ टी—पत्र ८४) ।

लंभिअ देखो लंभ = लम्, लम्भय् ।

लंभिअ वि [लध] प्राप्त (नाट—चैत १२५) ।

लंभिअ वि [लम्भित] प्राप्त कराया हुआ, प्रापित (सुअ २, ७, ३७; स ३१०; अचु ७१) ।

लंकुड न [दे. लकुट] लकड़ी, यष्टि, छड़ी, लठी (दे ७, १६, पात्र) ।

लकख सक [लक्ष्य] १ जानना । २ पहचानना । ३ देखना । लकखइ (महा) । कर्म. लक्खजए, लक्खोयसि (वित्ते २१४६; महा; काल) । कवक. लक्खिज्जंत (से ११, ४५) । क. लकखणीअ (नाट—शकु २४), देखो लकख = लक्ष्य ।

लकख पुंन [दे] काय, शरीर, देह (दे ७, १७) ।

लकख पुंन [लक्ष] संख्या-विशेष, लाख, सौ हजार (जी ४५; सुपा १०३; २४८; कुमा; प्रासू ६६) । 'पाग पुं' [पाक] लाख रूपों के व्यय से बनता एक तरह का पाक (ठा ६) ।

लकख वि [लक्ष्य] १ पहचानने योग्य; 'चिर-लक्खगो' (पउम ८२, ८४) । २ जिससे जाना जाय वह, लक्षण, प्रकाशक; 'भुअदप्पवी-अलक्खं चारं' (से ५, १७) । ३ वैद्य, निशाना; 'लक्खविषण—' (धम्मवि ५२; दे २, २६; कुमा) ।

लकख देखो लक्खा (पडि) ।

लकखग वि [लक्षक] पहचाननेवाला (पउम ८२, ८४; कुप्र ३००) ।

लकखण पुंन [लक्षण] १ इतर से भेद का बोधक चिह्न । २ वस्तु-स्वरूप (ठा ३, ३; ४, १; जी ११; वित्ते २१४६; २१४७; २१४८) । ३ चिह्न; 'लक्खणपुणणं' (कुमा) । ४ व्याकरण-शास्त्र; 'लक्खणसाहित्तपमाण-जोइसाईणि सा पडइ' (सुपा १४१; ६५७) । ५ व्याकरण आदि का सूत्र । ६ प्रतिपाद्य, विषय (हे २, ३) । ७ पुं. लक्ष्मण । ८ सारस पक्षी; 'लक्खणो' (प्राक २२) । 'संवच्छर पुं' [संवत्सर] वर्ष-विशेष (सुज १०, २०) ।

लकखण पुं [लक्ष्मण] श्रीराम का छोटा भाई (से १, ४८) । देखो लक्ष्मण ।

लकखण न [लक्षण] कारण, हेतु (वसनि १, १४) ।

लकखणा स्त्री [लक्षणा] १ शब्द-वृत्ति विशेष; शब्द की एक शक्ति, जिससे मुख्य अर्थ के वाच होने पर निम्न अर्थ की प्रतीति होती है (दे १, ३) । २ एक महौषधि (ती ५) ।

लकखणा स्त्री [लक्ष्मणा] १ आठवें जिनदेव की माता (सम १५१) । २ उसी जन्म में मुक्ति

पानेवाली श्रीकृष्ण की एक पत्नी (अंत १५) । ३ एक ग्राम्य की स्त्री (उप ७२८ टी) ।

लक्षणाग्रि वि [लाक्षणिक, लाक्षण्य] १ लक्षणों का जानकार । २ लक्षण-युक्त (सुपा १३६) ।

लक्ष्मण पुं [लक्ष्मण] विक्रम की वार-लक्ष्मण } हवीं शताब्दी का एक जैन मुनि और संघाकार (सुपा ६५८) ।

लक्ष्मी स्त्री [लाक्षा] लाज, लाह, जनु, चपड़ा (शाया १, १—पत्र २४; परह २, ५) ।  
रुणिय वि [रुणित] लाख से रंगा हुआ (पात्र) ।

लक्ष्मिअ वि [लक्षित] १ जाना हुआ । २ पहचाना हुआ । ३ देखा हुआ (गडड; नाट—रत्ना १४) ।

लग न [दे] निकट, पास (पिंग) ।

लगंड न [लगण्ड] बक्र काष्ठ (पंचा १८, १६; स ५२६) । साइ वि [शायिन्] बक्र काष्ठ की तरह सोनेवाला (परह २, १—पत्र १००; औप; कव; पंचा १८, १६; ठा ५, १—पत्र २६६) । सण न [सन] आसन-विशेष (सुपा ८५) ।

लगुड देखो लउड (कुप्र ३८६) ।

लग सक [लग] लगना, संग करना, संबध करना । लगइ (हे ४, २३०; ४२०; ४२२; प्राक ६८; प्राप्र; उव) । भवि. लगिस्तं, लगिहिइ (पि ५२७) । लगंत, लगमाण (चिदय ११२; उप ६६६; गा १०५) । संक. लगगूण (कुप्र ६६), लगिगि (अप) (हे ४, ३३६) । क. लगिअव (सुर १०, ११२) ।

लग न [दे] १ चिह्न । २ वि. अघटमान, असम्बद्ध (दे ७, १७) ।

लग न [लग्न] १ मेघ आदि राशि का उदय (सुर २, १७०; मोह-१०१) । २ वि. संसक्त, संबद्ध (पात्र; कुमा; सुर २, ५६) । ३ पुं. स्तुति-भावक (हे २, ६८) ।

लगण न [लगन] संग, संबन्ध; 'वडपाय-वसाहालगणैण' (सुर १५, १४; उप १३४; ५३८) ।

लगणय पुं [लग्नक] प्रतिभू, ज्ञानांत करनेवाला, जामिन (पात्र) ।

लगगूण देखो लग्न = लग ।

लघिम पुं स्त्री [लघिमन्] १ लघुता, लाघव । २ योग की एक सिद्धि, जिसके प्रभाव से मनुष्य छोटा बन सकता है; 'लघिज्ज लघिमगुणप्रो यनिलसवि लाघवं साहू' (कुप्र २७७) । ३ विद्या-विशेष (पउम ७, १३६) ।

लच्च न [दे] तुण-विशेष, गड्डुत तुण (दे ७, १७) ।

लच्छ देखो लक्ष = लक्ष्य (नाट) ।

लच्छ देखो लभ ।

लच्छण देखो लक्ष्ण = लक्षण (सुपा ६४; प्राक २२; नाट—चैत ५५) ।

लच्छी स्त्री [लक्ष्मी] १ संपत्ति, वैभव । २ लच्छी } धन, द्रव्य । ३ कान्ति । ४ औपव-विशेष । ५ फलितो वृक्ष । ६ स्थल-पत्थिनी । ७ हरिद्रा । ८ मुक्ता, मोती । ९ शटी नामक औपधि (कुमा; प्राक ३०; हे २, १७) । १० शोभा (से २, ११) । ११ विष्णु-पत्नी (पात्र; से २, ११) । १२ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, १०) । १३ पृष्ठ वासुदेव की माता (पउम २०, १८४) । १४ पुंडरीक द्रव्य की अघिष्ठात्री देवी (ठा २, ३—पत्र ७२) । १५ देव-प्रतिमा विशेष (शाया १, १ टी—पत्र ४३) । १६ छन्द-विशेष (पिंग) । १७ एक वणिक्-पत्नी (७२८ टी) । १८ शिखरी पर्वत का एक कूट (इक) । १९ निलय पुं [निलय] वासुदेव (पउम ३७, ३७) । २० मई स्त्री [मती] १ छठवें वासुदेव की माता (सम १५२) । २ ग्यारहवें चक्रवर्ती का स्त्री-रत्न (सम १५२) । २१ मंदिर न [मन्दिर] नगर-विशेष (सुपा ६३२) । २२ वई पुं [पति] लक्ष्मी का स्वामी, श्रीकृष्ण (प्राक ३०) । २३ वई स्त्री [वती] दक्षिण बचक पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६; इक) । २४ हर पुं [धर] १ वासुदेव (पउम ३८, ३४) । २ छन्द-विशेष (पिंग) । ३ न. नगर-विशेष (इक) ।

लज्जु (अशो) देखो रज्जु = (दे) (कप्य—रज्जु) ।

लज्ज अक [लज्ज] शरमाना । लज्जइ (उव; महा) । कर्म. लज्जज्जइ (हे ४, ४१६) ।

वक्र. लज्जंत, लज्जमाण (उप पृ ५५; महा; आना) । क. लज्जणिज्ज (से १६; २६; शाया १, ८—पत्र १४३) ।

लज्जण } न [लज्जन] १ शरम, लाज  
लज्जणय } (सा ८; राज) । २ वि. लज्जा-कारक; 'कि एतो लज्जणयं.....जं पह-रिज्जइ दीणं' पलायमाणे पमत्ते वा' (सुपा २१५; भवि) ।

लज्जा स्त्री [लज्जा] १ लाज, शरम (औप; कुमा; प्रासु ६६; गा ६१०) । २ छन्द-विशेष (पिंग) । ३ संयम (भग २, ५; औप) ।

लज्जापइत्तअ (शो) वि [लज्जयित्] लजाने-वाला; 'जुवइवेसलज्जापइत्तअ' (मा ४२) ।

लज्जालु वि [लज्जालु] लज्जावान्, शरमिदा (उप १७६ टी) ।

लज्जालु स्त्री [लज्जालु] १ लता-विशेष, लज्जालुआ } लाजवंती, लजवनी, छुईपुई  
लज्जालुइणी (पड; हे २, १५६; १७४) । २ लज्जावाली स्त्री (पड; हे २, १५६, १७४; सुर २, १५६; गा १२७; प्राक ३५) ।

लज्जालुइणी स्त्री [दे] कलह-कारिणी स्त्री (पड) ।

लज्जालुइर } वि [लज्जालु] लज्जाशील,  
लज्जालुइर } शरमिदा । स्त्री. री (गा ४८२; ६१२ अ) ।

लज्जाय सक [लज्जय] शरमिदा बनाना, लजवाना । लज्जावेदि (शौ) नाट—मृच्छ ११०) । क. लज्जायणिज्ज (स ३६८; भवि) ।

लज्जायण वि [लज्जन] शरमिन्दा करनेवाला (परह १, ३—पत्र ५४) ।

लज्जाविय वि [लज्जित] लजवाया हुआ (परह १; ३—पत्र ५४) ।

लज्जिअ वि [लज्जित] १ लज्जा-युक्त (पात्र) । २ न. लज्जा, शरम; 'न लज्जिअ अण्णोवि पलिआणं' (था १४) ।

लज्जिर वि [लज्जित्] लज्जा-शील (हे २, १४५; गा १५०; कुमा; वज्जा ८; भवि) । स्त्री. री (पि ५६६) ।

लज्जु स्त्री [रज्जु] १ रस्सी, लजुरी, लेजुरी या लेजुर । २ वि. रस्सी की तरह सरल, सीधा; 'चाई लज्जू धन्ने तवस्सी' (परह २, ५—पत्र १४६; भग) ।

लज्जु वि [लज्जावत्] लज्जावाला: 'एसणा-  
सन्निधौ लज्जु नामि ग्रन्थिग्रो चरे' (उत्त ६,  
१७)।

लज्जु देखो रिज्जु = ऋजु (भग)।

लज्जु देखो लभ।

लट्टु } न [दे] ? लसलस आदि का तेल  
लट्टुय } (पन्ना ३१)। २ कुसुम्भ: 'लट्टुयव-  
सणा' (दे ७, १७)।

लट्टा बी [दे. लट्टा] वाच्य-विशेष, कुसुम्भ  
वाच्य (पव १५४)।

लट्टा बी [लट्टा] ? वृक्ष-विशेष (कुमा)।  
२ कुसुम्भ (वृह १)। ३ गौरैया, पक्षि-  
विशेष। ४ भ्रमर, भौरा। ५ वाद्य-विशेष  
(दे २, ५५)।

लट्टु वि [दे] ? अन्यासक्त (दे ७, २६)। २  
मनोहर, सुन्दर, रम्य (दे ७, २६; पात्र:  
साया १, १; परह १, ४; सुर १, २६;  
कुप्र ११, श्रु ६; पुष्प ३४; सार्व २१; वण  
५; सुपा १५६)। ३ प्रियंवद, प्रिय-भापी  
(दे ७, २६)। ४ प्रधान, मुख्य: 'लमियज्जो  
मवराहो ममावि पाविट्टलट्टुत्त' (उप ७२८  
वी)। ५ दंत पुं [°दन्त] ? जैन मुनि (अनु  
१)। २ द्वीप-विशेष, एक अन्तर्द्वीप। ३  
द्वीप-विशेष में रहनेवाला मनुष्य (ठा ४,  
२—पत्र २२६; इक)।

लट्टुवी बी [दे] सुन्दर, रमणीय (कुप्र २१०)।  
लट्टुवी [यट्टि] लाठी, छड़ी (श्रौप; कुमा)।  
लट्टुअ न [दे] वाद्य-विशेष; 'जेट्टाहि लट्टुएणं  
भोच्चा कज्जं सारहिति' (सुज्ज १०, १७)।

लड्डु वि [दे] ? रम्य, सुन्दर (७, १७; सुपा  
६; सिरि ४७; ८७५; गउड; श्रौप; कप्प;  
कुमा; हेका २६५; सण; भवि)। २ सुकुमार,  
कोमल (काप्र ७६५; भवि)। ३ विदग्ध,  
चतुर (दे ७, १७)। ४ प्रधान, मुख्य (कुमा)।

लड्डुहक्खमिअ वि [दे] विघटित, विद्युक्त  
(दे ७, २०)।

लड्डुहा बी [दे] विलासवती बी. (पड्)।

लड्डाल देखो णड्डाल (प्राक् ३७; पि २६०)।

लड्डुय न [दे] लाड़, झोह, प्यार (भवि)।

लड्डुअ } पुं [लड्डुअ] लड्डु, मोदक  
लड्डुअ } (गा ६४१; प्रयो ८३; कुप्र २०६;  
भवि; पत्र ८४, ४; पिड ३७७)।

लड्डुयार वि [लड्डु अकार] लड्डु बनाने-  
वाला, हलवाई (कुप्र २०६)।

लड्डु सक [स्मृ] स्मरण करना, याद करना।  
लड्डु (हे ४, ७४)। वड्डु, लड्डंत (कुमा)।

लड्डिअ वि [स्मृत] याद किया हुआ (पात्र)।

लड्डुह वि [इलड्डुण] ? चिकना, मल्ल (सम  
१३७; ठा ४, २; श्रौप; कप्प)। २ अल्प,  
थोड़ा। ३ न. लोहा, वातु-विशेष (हे २,  
७७; प्राक् १८)।

लट्टा वि [लट्ट, लपित] उक्त, कथित (सुपा  
२३४)।

लट्टा } बी [दे] ? लात, पार्ष्ण-प्रहार  
लट्टिआ } (सुपा २३८; ठा २, ३—पत्र  
६३)। २ आतोद्य-विशेष (ठा २, ३; आचा  
२, ११, ३)।

लट्टण } (मा) देखो रयण = रत्न (अभि  
लट्टण } १८४; प्राक् १०२)।

लट्ट सक [दे] भार भरना, बोझ डालना,  
लादना, गुजराती में 'लादु'। हेक्. लट्टेडं  
(सुपा २७५)।

लट्टण न [दे] भार-क्षेप, लादना (स ५३७)।

लट्टी बी [दे] हाथी आदि की विष्टा, गुजराती  
में 'लीद' (सुपा १३७)।

लट्टु वि [लट्टुय] प्राप्त (भग: उवा; श्रौप,  
हे ३, २३)।

लट्टुि बी [लट्टुि] ? अयोपशम, ज्ञान आदि  
के आवारक कर्मों का विनाश और उपशान्ति  
(वित्ते २६६७)। २ सामर्थ्य-विशेष, योग  
आदि से प्राप्त होती विशिष्ट शक्ति (पव  
२७०; संबोध २८)। ३ अहिंसा (परह २,  
१—पत्र ६६)। ४ प्राप्ति, लाभ (भग ८,  
२)। ५ इन्द्रिय और मन से होनेवाला विज्ञान,  
श्रुत ज्ञान का उपयोग (वित्ते ४६६)। ६  
योग्यता (अणु)। ७ पुलाअ पुं [°पुलाक]  
लट्टुि-विशेष-संपन्न मुनि: 'संघाइयाण कज्जे  
चुएणज्जा चक्कवट्टिमवि जोए। तीए लट्टीइ  
जुअो लट्टिपुलाअो' (संबोध २८)।

लट्टुिअ वि [लट्टुि] प्राप्त (वे ६६)।

लट्टुिअ वि [लट्टुिअ] लट्टुि-युक्त (पंच  
१, ७)।

लट्टुिअ } देखो लभ।  
लट्टुिअ }

लट्टुिअ } देखो लभ।  
लट्टुिअ }

लट्टुिसिया बी [दे] लपसी, एक प्रकार का  
पकाव (पव ४)।

लट्टुि नीच देखो।

लट्टुि सक [लट्टुि] प्राप्त करना। लभइ,  
लभए (आचा: कंस; वित्ते १२१५)। भवि.  
लट्टुिअ, लट्टुिअ, लट्टुिअमि (उव: महा:  
पि ५२५)। कर्म. लट्टुिअ, लट्टुिअ (महा  
६०, १६; हे १, १८७; ४, २४६; कुमा)।  
संक्र. लट्टुिअ, लट्टुिअ, लट्टुिअ (पंच ५,  
१६४; आचा: काल)। हेक्. लट्टुिअ (काल)।  
क. लट्टुिअ (परह २, १; वित्ते २८३७; सुपा  
११; २३३; स १७५; सण)।

लट्टुि सक [ला] ग्रहण करना। लएइ, लयंति  
(उव)। कर्म—लट्टुिअ, लट्टुिअ (भवि:  
सिरि ६६३)। वड्डु. लयंत (वज्जा २८;  
महा: सिरि ३७५)। संक्र. लट्टुिअ, लट्टुिअ,  
लट्टुिअ (अप) (पिग: भवि)। देखो  
ले = ला।

लट्टुि न [दे] नव-वस्मति का आपस में नाम  
लेने का उत्सव (दे ७, १६)।

लट्टुि देखो लय = लव (गउड; से ५, १४)।

लट्टुि पुं [लट्टुि] ? श्लेष। २ मन की साम्या-  
वस्था (कुमा)। ३ लीनता, तल्लीनता। ४  
तिरोभाव (वित्ते २६६६)। ५ संगीत का  
एक अंग, स्वर-विशेष (स ७०४; हास्य  
१२३)।

लट्टुि° देखो लया। °हरय न [°गृहक] लता-  
गृह (सुपा ३८१)।

लट्टुि पुं [लट्टुि] तन्वी का स्वन—व्यनि-विशेष।  
°सम न [°सम] गेय काव्य का एक भेद  
(दसनि २, २३)।

लट्टुिअ न [लट्टुिअ] संख्या-विशेष, चौरासी  
लाव पुं; पुब्बाण लयसहस्सं तुलसीइणुं  
लयंगमिह होइ (जो २)।

लट्टुिअ वि [दे] ? तनु, कृय, काम (दे ७,  
२७; पात्र)। २ मृदु, कोमल। ३ न वल्ली,  
लता (दे ७, २७)।

लट्टुिअ न [लट्टुिअ] ? तिरोभाव, छिपना  
(वित्ते २८१७; दे ७, २४)। २ अवस्थान  
(सुर ३, २०६)। ३ देखो लेण (राज)।  
लट्टुिअ बी [दे] लता, वल्ली (पात्र; पड्)।

लया की [लता] १ वल्ली, वल्लरी (परण १; गा २८; काप्र ७२३; कुमा; कप्य)। २ प्रकार, भेद: 'संघाडो ति वा लय ति वा पगारो ति वा एगद्धा' (बृह १)। ३ तप-विशेष (पत्र २७१)। ४ संख्या-विशेष, चौरासी लाख लतांग-परिमित संख्या (जो २)। ५ कम्वा, छड़ी, यष्टि: 'कसप्यहारे य लयप्यहारे य छिवापहारे य' (शाया १, २—पत्र ८६; विपा १, ६—पत्र ६६)। ६ जुद्ध न [युद्ध] लड़ने को एक कला, एक तरह का युद्ध (श्रौप)।

लयापुरिस पुं [दे] वह स्थान, जहाँ पय-हस्त की का चित्रण किया जाय; 'पउमकरा जत्य व्हू तिहिज्जए सो लयापुरिसो' (दे ७, २०)।

लल अक [ल, लड] ? विलास करना, मौज करना। २ झूलना। ललइ, ललेइ (प्राक ७३; सण; महा; सुपा ४०३)। वक्र. ललंत, ललमाण (गा ४४६; सुर २, २३७; भवि; श्रौप; सुपा १८१; १८७)।

ललणा की [ललना] की, महिला, नारी (तंडु ५०; सुपा ४:७)।

ललाड देवो णडाल (श्रौप; पि २६०)।

ललाम न [ललामन्] प्रधान, नायक (अभि ६५)।

ललित न [ललित] १ विलास, मौज, लीला (पात्र; पत्र १६६; श्रौप)। २ अंग-विन्यास-विशेष (परह १, ४)। ३ प्रसन्नता, प्रसाद (विपा १, २ टी—पत्र २२)। ४ वि. क्रीडा-प्रधान, मौजी (शाया १, १६—पत्र २०५)। ५ शोभा-युक्त, सुन्दर, मनोहर (शाया १, १; श्रौप; राय)। ६ मंजु, मधुर (पात्र)। ७ ईप्सित, अभिलषित (शाया १, ६)। ८ मित्त पुं [मित्त] सातवें वासुदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५३; पउम २०, १७१)। ९ वित्थरा की [वित्थरा] आचार्य श्रीहरिभद्रमुरि का बनाया हुआ एक जैन ग्रन्थ (चिदय २५६)।

ललितंग पुं [ललितङ्ग] एक राज-कुमार (उप ६८६ टी)।

ललितअय न [ललितक] छन्द-विशेष (अभि १८)।

ललिआ की [ललिता] एक पुरोहित-की (उप ७२८ टी)।

लल वि [दे] १ सस्पृह, स्पृहावाला। २ न्यून; अघूरा (दे ७, २६)।

लल वि [लल] अव्यक्त आवाजवाला (परह १; २)।

ललक पुं [ललक] छठवीं नरक-पृथिवी का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र १२)।

ललक वि [दे] १ भीम, भयंकर (दे ७, १८; पात्र; सुर १६, १४८); 'ललकनरयविग्रणाश्रो' (भक्त ११०)। २ पुं. ललकार, लड़ाई आदि के लिए आह्वान (उप ७६८ टी)।

ललि की [दे] लुशामद (धर्मवि ३८; जय १६)।

ललिरी की [दे] मछली पकड़ने का जाल-विशेष (विपा १, ८—पत्र ८५)।

लव सक [ल] काटना। संकृ. लविऊण। हेक. लविउं। कृ. लविअउय (प्राक ६६)।

लव सक [लप्] बोलना, कहना। लवइ (कुमा; संवोध १८; सण), लवे (भास ६६)। वक्र. लवंत, लवमाण (सुपा २६७; सुर ३, ६१)।

लव सक [प्र+वर्तय्] प्रवृत्ति कराना; 'णो विज्जु लवंति' (मुज्ज २०)।

लव वि [लव] वाचाट, वकवादी (सूत्र २, ६, १५)।

लव पुं [लव] १ समय का एक सूक्ष्म परिमाण, सात स्तोत्र, मुहूर्त का सतरहवां अंश (ठा २, ४—पत्र ८६; सम ८५)। २ लेश, अल्प, थोड़ा (पात्र; प्रासू ६६; ११८; सण)। ३ न. कर्म (सूत्र १, २, २, २०; २, ६, ६)। ४ सत्तम पुं [सत्तम] अनुत्तरविमान निवासी देव, सर्वोत्तम देव-जाति (परह २, ४; उव; सूत्र १, ६, २४)।

लवअ पुं [दे. लवक] गोंद, जास, चेा, निर्घास; 'लवओ गुंदो' (पात्र)।

लवइअ वि [दे. लवकित] नूतन दल से युक्त, अंकुरित, पल्लवित (श्रौप; भग; शाया १, १ टी—पत्र ५)।

लवंग पुं [लवङ्ग] १ वृक्ष-विशेष, लौंग का पेड़ (परण १—पत्र ३४; कुप्र २४६)। २ बुद्ध-

विशेष का फूल, लौंग (शाया १, १—पत्र १२; परह २, ५)।

लवण न [लवण] छेदन, काटना (विसे ३२०६)।

लवण न [लवण] १ लोन, नून, नोन, नमक (कुमा)। २ पुं. रस-विशेष, क्षार रस (अणु)। ३ समुद्र-विशेष (सम ६७; शाया १, ६; पउम ६६, १८)। ४ सीता का एक पुत्र, लव (पउम ६७, १६)। ५ मधुराज का एक पुत्र (पउम ८६, ४७)। ६ जल पुं [जल] लवण समुद्र (पउम ५७, २७)। ७ य पुं [य] लवण समुद्र (पउम ६४, १३)। देखो लोण।

लवणिम पुंकी [लवणिमन्] लावण्य (कुमा)।

लवल न [लवल] पुष्प-विशेष (कुमा)।

लवली की [लवली] लता-विशेष (सुपा ३८; कुप्र २४६)।

लवव वि [दे] मुझ, सोया हुआ (पड्)।

लविअ वि [लपित] उक्त, कथित (सूत्र १, ६, ३५; कुमा; सुपा २६७)।

लवित्त न [लवित्र] दात्र, दांती, हँसुआ या हँसिया, घास काटने का एक औजार (दे १, ८२)।

लविर वि [लपित्] बोलनेवाला (सण)।

लकी [रा (कुमा)।

लस अक [लस्] ? श्लेष करना। २ चमकना। ३ क्रीडा करना। लसइ (प्राक ७२)। वक्र. लसंत (सण)।

लसइ पुं [दे] काम, कन्दर्प (दे ७, १८)।

लसक न [दे] तर-जौर, पेड़ का दूध (दे ७, १८)।

लसण देवो लसुण (सूत्र १, ७, १३)।

लसिर वि [लसित्] १ स्लिट होनेवाला। २ चमकनेवाला, दीप्त (ते ८, ४४)।

लसुअ न [दे] तेल, तेल (दे ७, १८)।

लसुण न [लसुण] लहसुन, कन्द-विशेष (आ २०)।

लह देवो लभ। लहइ, लहेइ, लहए (महा; पि ४५७)। भवि. लहिस्सामो (महा)। कर्म. लहिज्जइ (हे ४, २४६)। वक्र. लहंत (प्राक)। संकृ. लहिउं, लहिऊण (कुप्र १; महा) लहेपि, लहेपिणु, लहेवि (अप; पि ५८८)। कृ. लहणिज्ज, लहिअव्य (आ १४; सुर ६, ५३; सुपा ४२७)।

लहगा पुं [दे] वासी अन्न में पैदा होनेवाला  
द्विन्द्रिय कीट-विशेष (जी १५) ।

लहण न [लभन] १ लाभ, प्राप्ति । २ ग्रहण,  
स्वीकार (श्रा १४) ।

लहर पुं [लहर] एक वणिक-पुत्र (सुपा  
६१७) ।

लहरी } लो [लहरि, री] तरंग, कल्लोल  
लहरी } (सण; प्रान् ६६; कुमा) ।

लहाविअ वि [लभित] प्रापित, प्राप्तकराया  
हुआ (कुप्र २२२) ।

लहिअ देखो लट्ट (कप्प; पिग) ।

लहिम देखो लघिम (पड्) ।

लहु ) वि [लघु] १ छोटा, जघन्य (कुमा;  
लहुअ ) सुपा ३६०; कम्म १, ७२; महा) ।

२ हलका (से ७, ४४; पात्र) । ३ तुच्छ,  
निःसार (परह १, २—पत्र २८, परह २,  
२—पत्र ११६) । ४ श्लाघनीय, प्रशंसनीय

(से १२, ५३) । ५ थोड़ा, अल्प (सुपा  
३५४) । ६ मनोहर, सुन्दर (हे २, १२२) ।

लौ, ई, वी (पड्; प्राक् २८; गड्ड; हे  
२, ११३) । ७ न. कृष्णाणुल, सुगन्धि धूप-  
द्रव्य विशेष । = वीरण-मूल (हे २, १२२) ।

८ शीघ्र, जल्दी (द्र ४६; परह २, २—पत्र  
११६) । १० स्पर्श-विशेष (अणु) । ११

लघुस्पर्श नामक एक कर्मभेद (कम्म १, ४१) ।  
१२ पुं. एक मात्रावाला अक्षर (हे ३, १३४) ।

°कम्म वि [°कम्मन्] जिसके अल्प ही कर्म  
श्रवणिए रहे हों, शीघ्र मुक्ति-गामी (सुपा  
३५४) । °करण न [°करण] दक्षता,  
चातुरी (साया १, ३—पत्र ६२; उवा) ।

°परकम्म पुं [°पराकम्म] ईशानेन्द्र का एक  
पदाति-चेनापति (ठा ५, १—पत्र २०३;  
इक) । °संखिज्ज न [°संखयेय] संख्या-  
विशेष, जघन्य संख्यात (कम्म ४, ७२) ।

लहुअ सक [लवय्, लघु + कृ] लघु करना,  
छोटा करना । लहुअति, लहुएति (श्रा २०;  
गा ३४५) । वक्क. लहुअंत (से १५, २७) ।

लहुअयड पुं [दे] न्यग्रोध वृक्ष, वरगद का पेड़  
(दे ७, २०) ।

लहुआइअ ) वि [लघूकृत] लघु किया  
लहुइअ ) हुआ (से ६, ४; १२, ५४, स  
२०७; गड्ड) ।

लहुई देखो लहु ।

लहुग देखो लहु (कप्प; द्र ५८) ।

लहुची देखो लहु ।

लाइअ वि [लागित] लगाया हुआ (से २,  
२६; वजा ५०) ।

लाइअ वि [दे] १ गृहीत, स्वीकृत (दे ७,  
२७) । २ घृष्ट (से २, २६) । ३ न. भूपा,  
मण्डन (दे ७, २७) । ४ भूमि को गोबर

आदि से लीपना (सम १३७; कप्प; औप;  
साया १, १ टी—पत्र ३) । ५ चर्मावें,  
आवा चमड़ा (दे ७, २७) ।

लाइअन्व देखो लाय = लावय् ।

लाइज्जंत देखो लाय = लागय् ।

लाइम वि [लाग्र] काटने योग्य (दस ७,  
३४) ।

लाइम वि [दे] १ लाजा के योग्य, लोई के  
योग्य । २ रोपण के योग्य, बोने लायक  
(आचा २, ४, २, १५) ।

लाइल्ल पुं [दे] वृषभ, बैल (दे ७, १६) ।

लाउ देखो अलाउ (हे १, ६६; भग; कस;  
औप) ।

लाउल्लोइय न [दे] गोमय आदि से भूमि का  
लेपन और खड़ी आदि से भीत आदि का  
पोतना (राय ३५) ।

लाऊ देखो अलाऊ (हे १, ६६; कुमा) ।

लाख (अप) देखो लक्ख = लक्ष (पिग) ।

लाग पुं [दे] कुंभ, एक प्रकार का सरकारी  
कर; लगान, गुजराती में 'लागो' (तिरि ४३३,  
४३४) ।

लाघव न [लाघव] लघुता, छोटाई, लघुपन  
(भग; कप्प; सुपा १०३; कुप्र २७७; किरात  
१६) ।

लाघवि वि [लाघविन्] लघुता-युक्त, लाघव-  
वाला (उत्त २६, ४२; आचा) ।

लाघविअ न [लाघविक] लघुता, छोटापन,  
लाघव (ठा ५, ३—पत्र ३४२; वित्ते ७ टी;  
सुप्र २, १, ५७; भग) ।

लाज देखो लाय = लाज (दे ५, १०) ।

लाड पुं [लाट] देश-विशेष (सुपा ६५८; कुप्र  
२५४; उत्त ६७ टी; भवि; सण; इक) ।

लाडी लो [लाटी] लिपि-विशेष (वित्ते ४६४  
टी) ।

लाड पुं [लाड] देश-विशेष, एक श्रायं देश  
(आचा; पव २७५; विचार ४६) ।

लाड वि [दे] १ निर्दोष आहार से आत्मा  
का निर्वाह करनेवाला, संयमी, आत्म-निग्रही  
(सुप्र १, १०; ३; सुप्र २, १८) । २ प्रधान,  
मुख्य (उत्त १५, २) । ३ पुं. एक जैन

आचार्य (राज) ।

लाड वि [दे] श्रेष्ठ, उत्तम (आचा २, ३, १,  
५) ।

लाण न [लान] ग्रहण, आदान (से ७, ६०) ।

लायू देखो लाऊ (पड्) ।

लाभ पुं [लाभ] १ नफा, फायदा (उव; सुप्र  
८, १३) । २ प्राप्ति (ठा ३, ४) । ३ सुद,  
व्याज (उप ६५७) ।

लाभंतराइय न [लाभान्तरायिक] लाभ का  
प्रतिबन्धक कर्म (वमंसं-६४८) ।

लाभिय ) वि [लाभिक] लाभ-युक्त, लाभ-  
लाभिल्ल ) वाला (औप; कर्म १७) ।

लाम वि [दे] रम्य, सुन्दर (औप) ।

लामंजय न [दे] तृण-विशेष, उशीर तृण,  
जस—गाँडर घास की जड़ (पात्र) ।

लामा लो [दे] डाकिनी, डाइन (दे ७, २१) ।

लाय सक [लायय्] लगाना, जोड़ना ।  
लाएति (वित्ते ४२३) । वक्क. लायंत (भवि) ।

कवक्क. लाइज्जंत (से १३, १३) । संकृ.  
लाइवि (अप) (हे ४, ३३१; ३७८) ।

लाय सक [लावय्] १ कटवाना । २ काटना,  
छेदना । कृ. लाइअन्व (से १५, ७५) ।

लाय देखो लाइअ = (दे); 'लाउल्लोइय'  
(औप) ।

लाय वि [लात] १ श्रात, स्वीकृत, गृहीत ।  
२ न्यस्त, स्थापित (औप) । ३ न. लगन का  
एक दोष, 'लायाइदोसमुक्कं नवरर अइसोहणं  
लगं' (सुपा १०८) ।

लाय पुं [लाज] १ श्राद्रं तण्डुल । २ व.  
अष्ट वान्य, बुंजा हुआ नाज, लोई (कप्प) ।

लायण न [लागन] लगवाना (गा ४५८) ।

लायण न [लावण्य] १ शरीर-सौन्दर्य-विशेष,  
शरीरकान्ति (पात्र; कुमा; सण; पि १८६) ।

२ लवणत्व, क्षारत्व (हे १, १७७; १८०) ।

लाल सक [लालय्] स्नेह-पूर्वक पालन  
करना । लालति (तंडु ५०) । कवक्क.  
लालिज्जंत (सुर २, ७३; सुपा २४) ।

लालंप अक [ वि + लप् ] विलाप करना, विकल होकर रोना । लालंपइ (प्राकृ ७३) ।  
 लालंपिअ न [दे] १ प्रवाल । २ खलीन । ३ आक्रन्दित (दे ७, २७) ।  
 लालंभ देखो लालंप । लालंभइ (प्राकृ ७३) ।  
 लालण न [लालन] स्नेह-पूर्वक पालन (पउम २६, ८८) ।  
 लालप देखो लालंप । लालपइ (प्राकृ ७३) ।  
 लालप सक [लालप्य्] १ खूब बकना । २ बारबार बोलना । ३ गहित बोलना । लालपइ (सूत्र १, १०, १६) । वक्र. लालपमाण (उत्त १४, १०; आचा) ।  
 लालपण न [लालपन] गहित जल्पन (परह १, ३—पत्र ४३) ।  
 लालम्भ } देखो लालंप । लालम्भइ, लालम्भइ  
 लालम्ह } (प्राकृ ७३; घात्वा १५०) ।  
 लालय न [लालक] लाला, लार (दे ५, १६) ।  
 लालस वि [दे] १ मृदु, कोमल । २ खीन. इच्छा (दे ७, २१) ।  
 लालस वि [लालस] लम्पट, लोलुप (पात्र; हे ४, ४०१) ।  
 लाला स्त्री [लाला] लार, मुँह से गिरता जल-लव (श्रौप; गा ५५१; कुमा; सुपा २२६) ।  
 लालिअ देखो लालिअ; 'कुसुमिग्रहरिअंदण-कणयदंडपरिरंभलालिअंगीश्री' (गउड) ।  
 लालिअ वि [लालित] स्नेह-पूर्वक पालित (भवि) ।  
 लालिच (अप) पुं [नालिच] वृत्त-विशेष (पिंग) ।  
 लालिह वि [लालावत्] लारवाला (सुपा ५३१) ।  
 लाव सक [लावप्य्] बुलवाना, कहलाना । लावएज्जा (सूत्र १, ७, २४) ।  
 लाव देखो लावग (उप ५०७) ।  
 लावज न [दे] सुगन्धी तृण-विशेष, उशीर, खस (दे ७, २१) ।  
 लावक } पुं [लावक] १ पक्षि-विशेष (विपा  
 लावग } १, ७—पत्र ७५; परह १, १—  
 पत्र ८) । २ वि. काटनेवाला (विसे ३२०६) ।  
 लावणिअ वि [लावणिक] लवण से संस्कृत (विपा १, २—पत्र २७) ।

लावण्य } देखो लावण्य (श्रौप; रंभा; काल;  
 लावन्न } अमि ६२; भवि) ।  
 लावय देखो लावग (उवा) ।  
 लाविय (अप) वि [लाव] लाया हुआ (भवि) ।  
 लाविया स्त्री [दे] उपलोभन (सूत्र १, २, १, १८) ।  
 लाविर वि [लावित्] काटनेवाला (गा ३५५) ।  
 लास सक [लास्य्] नाचना । लासति (राप १०१) ।  
 लास न [लास्य] १ भरतशास्त्र-प्रसिद्ध गेयपद आदि (कुमा) । २ नृत्य, नाच (पात्र) । ३ स्त्री का नाच । ४ वाद्य, नृत्य और गीत का समुदाय (हे २, ६२) ।  
 लासक } पुं [लासक] १ रास गानेवाला ।  
 लासग } २ जय शब्द बोलनेवाला, भाएड (गाया १, १ टी—पत्र २; श्रौप; परह २, ४—पत्र १३२; कप्य) ।  
 लासय पुं [लासक, हलासक] १ अनायं देश-विशेष । २ पुं स्त्री. अनायं देश-विशेष का रहनेवाला । स्त्री. 'सिया (श्रौप; गाया १, १—पत्र ३७; इक; अंत) । देखो लहासिय ।  
 लासयविहय पुं [दे. लासकविहग] मयूर, मोर (दे ७, २१) ।  
 लाह सक [लाह्य्] प्रशंसा करना । लाहइ (हे १, १८७) ।  
 लाह देखो लाभ (उव; हे ४, ३६०; आ १२; गाया १, ६) ।  
 लाहण न [दे] भोज्य-भेद, खाद्य वस्तु की भेंट (दे ७, २१; ६, ७३; सट्टि ७८ टी; रंभा १३) ।  
 लाहल देखो लाहल (से १, २५३; कुमा) ।  
 लाहव देखो लावव (किरात १७) ।  
 लाहवि देखो लाववि (भवि) ।  
 लाहविय देखो लावविय (राज) ।  
 लिअ सक [लिप्] लेपन करना, लोपना । लिअइ (प्राकृ ७१) ।  
 लिअ वि [लिप्त] १ लोपा हुआ (गा ५२८) । २ न. लेप (प्राकृ ७७) ।  
 लिआर पुं [ल्लकार] 'ल्ल' वणं (प्राकृ ६) ।  
 लिंक पुं [दे] बाल, लड़का (दे ७, २२) ।  
 लिंकिअ वि [दे] १ आक्षिप्त । २ लीन (दे ७, २८) ।  
 लिखय देखो लख (सुपा ३५६) ।

लिग सक [लिङ्ग्] १ जानना । २ गति करना । ३ आलिंगन करना । कर्म. लिगिअइ (संबोध ५१) ।  
 लिग न [लिङ्ग] १ चिह्न, निशानी (प्रासू २४; गउड) । २ दार्शनिकों का वेप-धारण, साधु का अपने धर्म के अनुसार वेप (कुमा; विसे १५८५ टि; ठा ५, १—पत्र ३०३) । ३ अनुमान प्रमाण का साधक हेतु (विसे १५५०) । ४ पृथिव्य, पुरुष का असाधारण चिह्न (गउड) । ५ शब्द का धर्म-विशेष, पुंलिंग आदि (कुमा; राज) । ६ द्वय पुं [ध्वज] वेपधारी साधु (उप ४८६) । ७ जीव पुं [जीव] वही अर्थ (ठा ५, १) ।  
 लिंवि वि [लिङ्गिन्] १ साध्य, हेतु से जानी जाती वस्तु (विसे १५५०) । २ किसी धर्म के वेप को धारण करनेवाला, साधु, संन्यासी (पउम २२, ३; सुर २, १३०) । स्त्री. 'णी' (पुष्प ४५४) ।  
 लिंविगि वि [लिङ्गिक] १ अनुमान प्रमाण (विसे ६५) । २ किसी धर्म के वेप को धारण करनेवाला साधु, संन्यासी (मोह १०१) ।  
 लिङ्ग न [दे] १ चुल्ही-स्थान, चुल्हा का आश्रय । २ अग्नि-विशेष (ठा ८ टी—पत्र ४१६) । देखो लिच्छ ।  
 लिङ्ग न [दे] १ हाथी आदि की विष्टा; गुजराती में 'लीद' (गाया १, १—पत्र ६३; उप २६४ टी; ती २) । २ शैवल-रहित पुराना पानी (परह २, ५—पत्र १५१) ।  
 लिङ्गिया स्त्री [दे] अज—बकरा आदि की विष्टा, लेंड़ी, गुजराती में 'लिडी' (उप पृ २३७) ।  
 लिङ्ग देखो ले = ला ।  
 लिप सक [लिप्] लोपना, लेप करना । लिपइ (हे ४, १४६; प्राकृ ७१) । कर्म. लिप्यइ (आचा) । वक्र. लिपेमाण (गाया १, ६) । कवक. लिप्यंत, लिप्यमाण (श्रौधमा १६५; रयण २६) ।  
 लिपण न [लिपन] लेप, लोपना (विड २४६; सुपा ६१६) ।  
 लिपाविय वि [लिपित] लेप कराया हुआ (कुम १४०) ।  
 लिपिय वि [लिप्य] लोपा हुआ (कुमा) ।



लिय पुं [निम्ब] वृक्ष-विशेष, नीम का पेड़, मराठी में 'लिव' (हे १, २३०; कुमा; स २५)।  
 लिय वि [दे] १ कोमल। २ नम्र (राय ३५)।  
 लिय पुं [दे. लिम्ब] आन्तरण-विशेष (शाया १, १—पत्र १३)।  
 लियड (अप) देखो लिय = निम्ब; गुजराती में 'लिवडो' (हे ४, ३८७; पि २४७)।  
 लियोहली स्त्री [दे] निम्ब-फल (सूक्त ८६)।  
 लिङ्कार देखो लिङ्गार (पि ५६)।  
 लिङ्क अक [नि + ली] छिपना। लिङ्कइ (हे ४, ५५; पड्)। वक्र. लिङ्कंत (कुमा)।  
 लिङ्कल न [लेख्य] लेखा, हिसाब; 'लिङ्कल गणिकण चितए सिद्धो' (सिरि ४१८; सुपा ४२५)। देखो लेखल।  
 लिङ्कल स्त्रीन [दे] छोटा स्त्री (दे ७, २१)। स्त्री. 'कखा (दे ७, २१)।  
 लिङ्कला स्त्री [लिङ्गा] १ लघु युवा, छोटा बूँ. लोख—सर के बालों में होता कीड़ा (दे ८, ६६; सं ६७)। २ परिमाण-विशेष (इक)।  
 लिङ्खाप (अशो) सक [लेख्य] लिखवाना। भवि. लिखापविस्सं (पि ७)।  
 लिङ्खापित (अशो) वि [लेखित] लिखवाया हुआ (पि ७)।  
 लिच्छ सक [लिप्स्] प्राप्त करने की चाहना। लिच्छइ (हे २; २१)।  
 लिच्छ देखो लिच्छ (ठा ८—पत्र ४३७)।  
 लिच्छवि देखो लेच्छइ = लेच्छक (अंत)।  
 लिच्छा स्त्री [लिप्सा] लाभ की इच्छा (उप ६३०; प्राकृ २३)।  
 लिच्छु वि [लिप्सु] लाभ की चाहवाला (सुख ६, १; कुमा)।  
 लिङ्गिअ (अप) वि [लात] गृहीत (पिग)।  
 लिङ्गिअ न [दे] १ चाटु, बुशामद (दे ७, २२)। २ वि. लम्पट, लोचुप (सुपा ५६३)।  
 लिट् ठु देखो लेट् ठु (वसु)।  
 लिप्त वि [लिप्त] १ लेप-युक्त, लिपा हुआ (हे १, ६; कुमा; भवि)। २ संवेष्टित (सूय १, ३, ३; १३)।  
 लिप्ति पुं स्त्री [दे] खड्ग आदि का दोष (दे ७, २२)।

लिप्प देखो लिप्त (गा ५१६; गउड)।  
 लिप्प देखो लेप्प (कुप्र ३८५)।  
 लिप्पंत } देखो लिप।  
 लिप्पमाण }  
 लिप्पासण न [लिप्पासन] मसी-नाजग, दोत, दोमात, दावात (राय ६६)।  
 लिप्पंत देखो लिह = लिह्।  
 लिप्पि वि [दे] १ हरा, आद्रं। २ हरा रंगवाला; 'अइलिप्पिरपट्टवंधणमिसेण चोरमु पट्टवंधं व जो फुडं तथ उअहइ' (धम्मवि ७३)।  
 लिपि स्त्री [लिपि, पी] अक्षर-लेखन-प्रक्रिया लिपी (सम ३५; भग)।  
 लिप्स अक [स्वप्] सोना, सूतना, शयन करना। लिप्सइ (हे ४, १४६)।  
 लिप्स सक [लिप्] आलिपन करना। भवि. लिप्सिस्सामो (सूय २, ७, १०)।  
 लिप्सय वि [दे] तनूकृत, क्षीण (दे ७, २२)।  
 लिप्स देखो लिप्स = लिप्। लिप्सति (सूय १, ४, १, २)।  
 लिह सक [लिह्] १ लिखना। २ रेखा करना। लिहइ (हे १, १८७; प्राकृ ७०)। कर्म. लिखइ (उव)। प्रयो. लिहावेइ, लिहावंति (कुप्र ३४८; सिरि १२७८)।  
 लिहि सक [लिह्] चाटना। लिहइ (कुमा; प्राकृ ७०)। कर्म. लिहिज्जइ, लिह्वइ (हे ४, २४५)। वक्र. लिहंत (भत्त १४२)। क्वक. लिहंत (से ६, ४?)। क. लेउन्न (शाया १, १७—पत्र २३२)।  
 लिहण न [लेहन] चाटन (उर १, ८; पड्: रंना १६)।  
 लिहण न [लेखन] १ लिखना, लेख (कुप्र ३६८)। २ रेखा-करण (तंडु ५०)। ३ लिखवाना; 'पवणएलिहणं सहस्ते लक्खे निणभवणकारवणं' (संघोव ३६)।  
 लिहा स्त्री [लेखा] देखो रेहा = रेखा; 'इक्क चिय मह भइणी मयणा धन्नाए धू (? धु)रि लहइ लिहं' (सिरि ६७७)।  
 लिहावण न [लेखन] लिखवाना (उप ७२४)।  
 लिहाविषय वि [लेखित] लिखवाया हुआ (स ६०)।

लिहिअ वि [लिहित] १ लिखा हुआ (प्राप् ५८)। २ उल्लिखित (उवा)। ३ रेखा किया हुआ, चित्रित (कुमा)।  
 लिहणअ (अप) वि [लात] लिखा हुआ, गृहीत (पिग)।  
 लीड वि [लीड] १ चाटा हुआ (सुपा ६५१)। २ लुट्ट; 'नरिदसिरि (? सिर) कुमुनलोडपायवोड' (कुप्र ५)। ३ युक्त (पत्र १२५)।  
 लीण वि [लीन] लय-युक्त (कुमा)।  
 लील पुं [दे] यम (दे ७, २३)।  
 लीला स्त्री [लीला] १ विलास, मीमांसा। २ मीमांसा (कुमा; पाप्र; प्राप् ६१)। ३ छन्द-विशेष (पिग)। 'वई स्त्री [वर्ती] १ विलास-यती स्त्री (प्राप् ६१)। २ छन्द-विशेष (पिग)। 'वह वि [वह] लीला-वाक (गउड)।  
 लीलाइअ न [लीलायित] १ मीमांसा, केलि (कप्पु)। २ प्रभाव; 'धम्मत्त लीलाइयं' (उप १०३१ टी)।  
 लीलाय सक [लीलाय] लीला करना। वक्र. लीलायंत (शाया १, १—पत्र १३; कप)। क. लीलाइयच्च (गउड)।  
 लीव पुं [दे] बाल, बाजरु (दे ७, २२, सुर १५, २१८)।  
 लीहा देखो लिहा (शाया १, ८—पत्र १४५; कुमा; भवि; सुपा १०६; १२५)।  
 लुअ सक [लु] छेदना, काटना। लुएज्जा (पि ४७३)।  
 लुअ देखो लुप। लुअइ (प्राकृ ७१)।  
 लुअ वि [लून] काटा हुआ, छिन्न (हे ४, २५८; गा ८; गा ८; से ३, ४२; दे ७, २३; सुर १३, १७५; सुपा ५२४)।  
 लुअ वि [लुप्त] १ जिसका लोप किया गया हो वह। २ न. लोप (प्राकृ ७७)।  
 लुअंत वि [लूनवत्] जिसने छेदन किया हो वह (घात्वा १५१)।  
 लुं क वि [दे] सुप्त, सोया हुआ (दे ७, २३)।  
 लुं कणी स्त्री [दे] लुक्ना, छिपना (दे ७, २४)।  
 लुं ख पुं [दे] नियम (दे ७, २३)।  
 लुं खाय पुं [दे] नियम (दे ७, २३)।

लुखिअ वि [दे] कलुप, मलिन (सि १५, ४२)।

लुंच सक [लुञ्च] १ बाल उखाड़ना । २ यपनयन करना, दूर करना । लुंचइ (भवि) । भूका, लुंचित्तु (आचा)।

लुंचिअ वि [लुञ्चित] केश-रहित किया हुआ, मुरिडत (कुप्र २६२; सुपा ६४१)।

लुंछ सक [मृज्, प्र + उञ्छ्] मार्जन करना, पोंछना । लुंछइ (हे ४, १०५; प्राक ६७; चात्वा १५१) । वक्र. लुंछंत (कुमा) ।

लुंठ सक [लुण्ट] लूटना । लुंठंति (सुपा ३५२) । वक्र. लुंठंत (धर्मवि ११३) । क्वक. लुंठिजंत (सुर २, १४) ।

लुंठण न [लुण्टन] लूट (सुर २, ४६; कुमा) ।

लुंठाक वि [लुण्टाक] लूटनेवाला, लुंटेरा (धर्मवि १२३) ।

लुंठाग वि [लुण्ठाक] खल, दुर्जन; 'चडवंद-वेडिआ उवहसिज्जमाणा लुंठागलोएण, अणु-कंपिज्जंतो धम्मिअजणेण' (सुख २, ६) ।

लुंठिअ वि [लुण्ठित] बलाद् गृहीत, जवर-दस्ती से लिया हुआ (पिप) ।

लुंप सक [लुप्] १ लोप करना, विनाश करना । २ उषीदन करना । लुंपइ, लुंपहा (प्राक ७१; सूत्र १, ३, ४, ७) । कर्म. लुंपइ (अचा), लुंपए (सूत्र १, २, १, १३) । क्वक. लुंपंत, लुंपमाण (पि पि ५४२; उवा) । संक्र. लुंपित्ता (पि ५८२) ।

लुंपइत्तु वि [लोपयित्] लोप करनेवाला (आचा; सूत्र २, २, ६) ।

लुंपणा वी [लोपना] विनाश (परह १, १—पत्र ६) ।

लुंपित्तु वि [लोपित्] लोप करनेवाला (आचा) ।

लुंवी वी [दे. लुम्बी] १ स्तवक, फलों का गुच्छा (दे ७, २८; कुमा; गा ३२२; कुप्र ४६०) । २ जता, वल्ली (दे ७, २८) ।

लुक्क अक [नि + ली] लुकना, छिपना । लुक्कइ (हे ४, ५५; पड्) । वक्र. लक्कंत (कुमा; वज्जा ५६) ।

लुक्क अक [लुक्] लूटना । लुक्कइ (हे ४, ११६) ।

लुक्क वि [दे] मुम, सोया हुआ (पड्) । लुक्क वि [निलीन] लुका हुआ, छिपा हुआ (गा ४६; ५५८; पिग) ।

लुक्क वि [रुण] १ भग्न (कुमा) । २ बीमार, रोगी (हे २, २) ।

लुक्क वि [लुञ्चित] मुरिडत, केश-रहित (कप; पिड २१७) ।

लुक्कमाण देखो लोअ = लोक् ।

लुक्किअ वि [लुडित] हटा हुआ, खरिडत (कुमा) ।

लुक्किअ वि [निलीन] लुका हुआ, छिपा हुआ (पिग) ।

लुक्कण पुं [रुक्ष] १ स्पर्श-विशेष, लूना स्पर्श (वा १, सम ४१) २ वि. रुक्ष स्पर्शवाला, स्नेह रहित, लूना, रुखा (एयाया १, १—पत्र ७२; कप; ग्रीप) । देखो लूह = रुक्ष ।

लुग्ग वि [दे. रुण] १ भग्न, नांगा हुआ (दे ७, २३; हे २, २; ४, २५८) । २ रोगी, बीमार (हे २, २; ४, २५८ पड्) ।

लुच्छ देखो लुंछ = मृज् । लुच्छइ (पड्) ।

लुट्ट सक [लुण्ट] लूटना । लुट्टइ (पड्) ।

लुट्ट देखो लोट्ट = स्वप् । लुट्टइ (कुमा ६, १००) ।

लुट्ट वि [लुण्ठित] लूटा गया (धर्मवि ७) ।

लुट्ट पुं [लोट्ट] रोड़ा, डेला, ईंट आदि का टुकड़ा (दे ७, २६) ।

लुट्ट देखो लुट्ट (प्राक २१) ।

लुट्ट अक [लुट्] लुट्टकना, लेटना । वक्र. लुट्टमाण (स २५४) ।

लुट्टिअ वि [लुठित] लेटा हुआ (सुपा ५०३; स ३६६) ।

लुग्ग देखो लुअ = लू । लुग्गइ (हे ४, २४१) । कर्म. लुग्गिज्जइ, लुव्वइ (प्राप्र. हे ४, २४२) ।

संक्र. लुग्गिऊण, लुग्गेऊण (प्राक ६६; पड्), लुग्गेपि (अप) (पि ५८८) ।

लुग्गिअ वि [लून्] काटा हुआ (धर्मवि १२६; चिदि ४०४) ।

लुत्त वि [लुत्त] लोप-प्राप्त; 'करेइ लुत्तो इकारो ल्य' (चिइय ६७७) ।

लुत्त न [लोप्त्र] चोरी का माल (आवक ६३ टी) ।

लुट्ट पुं [लुव्व] १ व्याघ (परह १, २; निवू ४) । २ वि. लोपुप, लम्पट (प्राप्र; विपा १, ७—पत्र ७७; प्रासू ७६) । ३ न. लोभ (वृह ३) ।

लुट्ट न [लोप्त्र] गन्ध-द्रव्य-विशेष; 'सिराणं अटुवा कक्कं लुट्टं पउमगाणि अ' (दस ६, ६४) । देखो लोद्ध = लोप्त्र ।

लुट्ट पुंन [लोप्त्र] क्षार-विशेष (आचा २, १३, १) ।

लुट्टपंत } देखो लुंप ।  
लुट्टमाण }

लुट्टभ } अक [लुम्] १ लोभ करना ।  
लुट्टभ } २ आसक्ति करना । लुट्टभइ, लुट्टभसि (हे ४, १५३; कुमा), लुट्टभइ (पड्) । क. लुट्टभियव्व (परह २, ५—पत्र १४६) ।

लुट्टभ देखो लुह = मृज् । लुट्टभइ (संक्षि ३५) ।

लुट्टणी वी [दे] वाद्य-विशेष (दे ७, २४) ।

लुल देखो लुड । लुलइ (पिग) । वक्र. लुलंत, लुलमाण (सुपा ११७; सुर १०, २३१) ।

लुलिअ वि [लुठित] लेटा हुआ (सुर ४, ६८) ।

लुलिअ वि [लुलित] घूर्णित, चलित (उवा; कुमा; काप्र ८६३) ।

लुव देखो लुअ = लू । लुवइ (चात्वा १५१) । लुव्व देखो लुण ।

लुह सक [मृज्] मार्जन करना, पोंछना । लुहइ (हे ४, १०५; पड्; प्राक ६६; भवि) ।

लुहण न [मार्जन] शुद्धि (कुमा) ।

लूअ देखो लुअ = लून (पड्) ।

लूआ वी [दे] मृग-नृपणा, सूर्य-किरण में जल की भ्रान्ति (दे ७, २४) ।

लूआ वी [लूना] १ वातिक रोग-विशेष (पंचा १८, २७; सुपा १४७; लहुर १५) । २ जाल बनानेवाला कृमि, मकड़ी (ओष ३२३; दे) ।

लूड [लुण्ट] लूटना, चोरी करना । लूडइ, लूडेइ, लूडेह (धर्मवि ८०; संवेग २६; कुप्र ५६) । हेक्. लूडेवं (सुपा ३०७; धर्मवि १२४) । प्रयो., वक्र. लूडावंत (सुपा ३५३) ।

लूड वि [लुण्ट] लूडेवाला । स्त्री. °डी;  
सो नरिय एख गामे जो

एयं महमहंतलायएणं ।

तहणाए हिययलूडि

परिसकंति निवारेइ ॥'

(हेका २६०; काप्र ६१७) ।

लूडण न [लुण्टन] लूड, चोरी (स ४४१) ।

लूडिअ वि [लुण्टित] लूटा हुआ (स ५३६;  
पदम ३०, ६२; सुपा ३०७) ।

लूण देखो लूअ = लून (दे ७, २३; सुपा  
५२२; कुमा) ।

लूण न [लवण] १ लून, नून, नोन, नमक  
(जो ४) । २ पुं. वनस्पति-विशेष (श्रा २०;  
वर्म २) । देखो लवण ।

लूण न [लवण] लावण्य, सुन्दरता, शरीर-  
कान्ति (सुपा २६३) ।

लूर सक [छिद्] काटना । लूरइ (हे ४,  
१२४) ।

लूरिअ वि [छिन्न] काटा हुआ (कुमा ६,  
८३) ।

लूस सक [लूपय] १ बच करना, मार  
डालना । २ पीड़ना, कदयन करना, हेरान  
करना । ३ दूषित करना । ४ चोरी करना ।  
५ विनाश करना । ६ अनादर करना । ७  
तोड़ना । ८ छोटे को बड़ा और बड़े को  
छोटा करना । लूसति, लूसयति, लूसएज्जा  
(सूत्र १, ३, १, १४; १, ७, २१; १, १४,  
१६; १, १४, २५) । भूका, लूसिनु (आचा) ।  
संक्र. लूसिउं (श्रा १२) ।

लूसअ } वि [लूषक] १ हिंसक, हिंसा करने-  
लूसग } वाला । २ विनाशक (सूत्र २, १,  
५०; १, २, ३, ६) । ३ प्रकृति-क्रूर, निर्दय ।  
४ मसक (सूत्र १, ३, १, ८) । ५ दूषित  
करनेवाला (सूत्र १, १४, २६) । ६ विरा-  
धक, आत्मा नहीं माननेवाला (सूत्र १, २०, २,  
६, आचा) । ७ हेतु-विशेष (ठा ४, ३—पत्र  
२५४) ।

लूसण वि [लूषण] ऊपर देखो (आचा;  
श्रीप) ।

लूसय वि [लूपक] १ परिव्राज-कर्ता (आचा  
३, १, ६; ४) । २ चोरे, तस्कर (वच ४) ।

लूसिअ वि [लूपित] १ लुण्टित, लुटा गया  
(श्रा १२) । २ उपद्रुत, पीड़ित (सम्मत्  
१७५) । ३ विनाशित (संशोध १०) । ४  
हिंसित (आचा) ।

लूह सक [सृज्, रूक्षय्] पोंछना । लूहेइ,  
लूहेंति (राय; शाया १, १—पत्र ५३) ।  
संक्र. लूहिता (पि २५७) ।

लूह पुं [रूक्ष] मुनि, साधु, श्रमण (दत्तानि  
२, ६) ।

लूह वि [रूक्ष] १ लूखा, लूखा, स्नेह-रहित  
आचा; पिड १२६, उव) । २ पुं. संयम, विरति,  
चारित्र (सुत्र, १, ३, १, ३) । ३ न. तप-  
विशेष, निर्विकृतिक तप (संशोध ५८) । देखो  
लूकख ।

लूहिय वि [रूक्षित] पोंछा हुआ (शाया १,  
१—पत्र १६; कप्य; श्रीप) ।

ले सक [ला] लेना, ग्रहण करना । लेइ (हे  
४, २३८; कुमा) । वक्र. लिंत (सुपा २५२;  
पिग) । संक्र. लेवि (अप) (हे ४, ४४०) ।  
हेक्र. लेविणु (अप) (हे ४, ४४१) ।

लेखन [लेख्य] १ व्यवहार, व्यापार (सुपा  
४२४) । २ लेखा, हिसाब (कुप्र २३८) ।

लेख्खा देखो लिहा (गजड) ।

लेख देखो लेइ = लेख (सम ३५) ।

लेखापित देखो लिखापित (पि ७) ।

लेच्छइ पुं [लेच्छकि] १ क्षत्रिय-विशेष ।  
२ एक प्रसिद्ध राज-वंश (सूत्र १, १३, १०;  
भग; कप्य; श्रीप; श्रंत) ।

लेच्छइ पुं [लिप्सुक, लेच्छकि] १ वणिक्,  
वैश्य । २ एक वणिग्-जाति (सूत्र २, १,  
१३) ।

लेच्छारिय वि [दे] लरिण्ट, लिप्त (पिड  
२१०) ।

लेज्ज देखो लिह = लिह् ।

लेट्टु पुं न [लेट्टु] रोड़ा, ईंट, पत्थर आदि  
का टुकड़ा (विसे २४६६; श्रीप; उव; कप्य;  
महा) ।

लेहु } पुं न [दे. लेट्टु] ऊपर देखो (पात्र-  
लेहुअ } दे ७, २४) ।

लेहुक पुं [दे] १ रोड़ा, लोट्ट । २ वि.  
लम्पट (दे ७, २६) ।

लेडिअ न [दे] स्मरण; स्मृति (दे ७, २५) ।

लेहुक पुं [दे] रोड़ा, लोट्ट (दे ७, २४;  
पात्र) ।

लेण न [लयन] १ गिरि-वर्ती पापाण-गृह  
(शाया १, २—पत्र ७६) । २ विल, जल-  
गृह (कप्य) । °विहि पुंश्री [°विधि] कला-  
विशेष (श्रीप) । देखो लयण = लयन ।

लेप न [लेप्य] भित्ति, भीत (वर्मसं २६;  
कुप्र ३००) ।

लेपकार पुं. [लेप्यकार] शिली-विशेष,  
राज, राजगीर (अणु १४६) ।

लेप्या स्त्री [लेप्या] लेपन-क्रिया (उत्त १६,  
६५) ।

लेलु देखो लेहु (आचा; सूत्र २, २, १८;  
पिड ३४६) ।

लेव पुं [लेव] १ लेपन (सम ३६; पदम-३,  
२८) । २ नाभि-प्रमाण जल (श्रीषमा ३४) ।  
३ पुं. भगवान् महावीर के समय का नालंदा-  
निवासी एक गृहस्थ (सूत्र २, ७, २) । °कड,  
°ड वि [°कृत] लेप-मित्यत (श्रीष ५६५;  
पत्र ४ वे—पत्र ४६; पडि) ।

लेवण न [लेपन] लेप-करण (पत्र १३३) ।

लेवाड वि [लेपकृत] लेप कारक (वच १) ।

लेस पुं [लेश] १ अल्प, स्तोक, लव, थोड़ा  
(पात्र; दे ७, २८) । २ संक्षेप (दे १) ।

लेस वि [दे] १ लिखित । २ आश्वस्त । ३  
निःशब्द, शब्द-रहित । ४ पुं. निद्रा (दे ७,  
२८) ।

लेस पुं [श्लेष] संश्लेष, संवन्ध, मिलान  
(राय) ।

लेसण न [श्लेषण] ऊपर देखो (विसे  
३०७) ।

लेसणया स्त्री [श्लेषणा] ऊपर देखो (श्रीप;  
लेसणा } ठा ४, ४—पत्र २८०; राज) ।

लेसणी स्त्री [श्लेषणी] विद्या-विशेष (सूत्र  
२, २, २७; शाया १, १६—पत्र २१३) ।

लेसा स्त्री [लेश्या] १ तेज, दीप्ति । २ मंडल-  
विम्ब; चंद्रस लेस आवरेताण चिहुइ (सम  
२६) । ३ किरण (मुज १६) । ४ देह-  
सौन्दर्य (राज) । ५ आत्मा का परिणाम-  
विशेष, कृप्यादि द्रव्यों के सांनिध्य से उत्पन्न  
होनेवाला आत्मा का शुभ या अशुभ परिणाम ।  
६ आत्मा के शुभ या अशुभ परिणाम की उत्पत्ति

में निमित्त-भूत कृष्णादि द्रव्य (भगः उवाः  
श्रीपः पव १५२; जीवस ७४; संवोच ४८;  
परण १७; कम्म ४, १; ३१) ।

लेसा स्त्री [लेश्या] ज्वाला (राय ५६; ५७) ।  
लेसिय वि [श्लेषित] श्लेष-युक्त (स ७६२) ।  
लेसुरडयतरु पुं [दे] लसोडा; पुं ० ब्रूदा  
(चउपत्र० पत्र २४३) ।

लेसा देखो लेसा (भग) ।

लेह देखो लिह = लिख् । लेहड (प्राकृ ७०) ।  
लेह देखो लिह = लिह् । लेहड (प्राकृ ७०) ।  
लेह (अप) देखो लह = लभ् । लेहड (पिग) ।  
लेह पुं [लेह] अचलेह, चाटन (पउम २,  
२८) ।

लेइ पुं [लेइ] १ लिखना, लेखन, अक्षर-  
विन्यास (गा २४४; उवा) । २ पत्र, चिट्ठी  
(कप्प) । ३ देव, देवता । ४ लिपि । ५ वि.  
लेख्य, जो लिखा जाय (हे २, १८६) । ६  
लेखक, लिखनेवाला; 'अत्रवि लेहत्तणे तएहा'  
(वजा १००) । °वाह वि [°वाह] चिट्ठी  
ले जानेवाला, पत्र-वाहक (पउम ३१, १;  
सुपा ५१६) । °वाहाग, °वाहय वि  
[°वाहक] वही अर्थ (सुपा ३३१; ३३२) ।  
°साला स्त्री [°शाला] पाठशाला (उप ७२८  
टी) । °रिय पुं [°चार्य] उपाध्याय, शिक्षक  
(महा) ।

लेहड वि [दे] लम्पट, लुब्ध (दे ७, २५;  
उव) ।

लेहण न [लेहन] चाटन, आस्त्रादन (पउम  
३, १०७) ।

लेहणी स्त्री [लेहनी] कनम, लेखनी (पउम  
२६, ५; गा २४४) ।

लेहल देखो लहड (गा ४६१) ।

लेहा देखो लिहा (श्रीपः कप्प; कप्प; कुप्र  
३६६; स्वप्न ५२) ।

लेहिय वि [लेखित] लिखवाया हुआ (ती  
७) ।

लेहुड पुं [दे] लोठ, रोड़ा, डेला (दे ७, २४) ।

लोअ देखो रोअ = रोचय् । संकृ. लोएया  
(कस) ।

लोअ सक [लोक्, लोकर्य] देवना । वक्र.  
लोअअंत (नाट) । कवक. लुक्कमाग (उप  
१४२; टी) । संकृ. लोइउं (कुप्र ३) ।

लोअ पुं [लोअ] १ घनास्तिकाय आदि द्रव्यों  
का आचार-भूत आकाश-क्षेत्र, जगत्, संसार,  
भुवन । २ जीव, अजीव आदि द्रव्य । ३  
समय, आवलिका आदि काल । ४ गुण,  
पर्याय, वर्ण । ५ जन, मनुष्य आदि प्राणि-  
वर्ग (ठा १—पत्र १३; टी—पत्र १४; भग;  
हे १, १८०; कुमा; जी १४; प्रासू ५२; ७१;  
उव; सुर १, ६६) । ६ आलोक, प्रकाश  
(वजा १०६) । गग° न [°ग] १  
ईपत्यागभारा नामक पृथिवी, मुक्त-स्थान  
(गाया १, ५—पत्र १०५; इक) । २ मुक्ति,  
मोक्ष, निर्वाण (पाप्र) । °गाथूभिआ स्त्री  
[°प्रस्तूपिका] मुक्त-स्थान, ईपत्यागभारा  
पृथिवी (इक) । °गपडिचुम्भगा स्त्री  
[°प्रप्रतिबोधना] वही अर्थ (इक) । °णाभि  
पुं [°नाभि] मेरु पर्वत (सुज ५) । °पत्राय  
पुं [°प्रवाद] जन-श्रुति, कहावत (सुर २,  
४७) । °मज्झ पुं [°मध्य] मेरु पर्वत (सुज  
५) । °वाय पुं [°वाद] जन-श्रुति,  
लोकोक्ति (स २६०; मा ४८) । °गास पुं  
[°कार] लोक-क्षेत्र, आलोक-निर्गत आकाश  
(भग) । °हाणय न [°भाण] कहावत,  
लोकोक्ति (मवि) । देखो लोग ।

लोअ पुं [लोअ] लुब्धन, नोंचना, केशों का  
उत्पादन, उखाड़ना (सुपा ६४१; कुप्र १७३;  
गाया १, १—पत्र ६०; श्रीप, उव) ।

लोअ पुं [लोअ] अदशन, विध्वंस (चेइय  
६६१) ।

लोअतिय पुं [लोअतिय] एक देज-जाति  
(कप्प) ।

लोअग न [दे. लोअक] गुण-रहित अन्न,  
खराब नाज (कस) ।

लोअडी (अप) स्त्री [लोअपी] कम्बल (हे  
४, ४२३) ।

लोअण पुं [लोअण] आँख, चक्षु, नेत्र (हे  
१, ३३; २, १८४; कुमा; पाप्र; सुर २,  
२२२) । °वत्त न [°पत्र] अक्षि लोम,  
वरवनी, पक्षम (सि ६, ६८) ।

लोअणिल्ल वि [लोअणिल्ल] अँखवाला  
(सुपा २००) ।

लोआणी स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष (परण  
१—पत्र ३६) ।

लोइअ वि [लोअ] निरीक्षित, दृष्ट (गा  
२७१; स ७१३) ।

लोइअ वि [लोअ] लोक-संबन्धी, सांसारिक  
(आवा; विपा १, २—पत्र ३०; गाया १,  
६—पत्र १६६) ।

लोउत्तर वि [लोउत्तर] लोक-प्रधान, लोक-  
श्रेष्ठ, असाधारण; 'लोउत्तरं चरिअं' (था १६;  
विसे ८७०) । देखो लोगुत्तर ।

लोउत्तरिय वि [लोउत्तरिय] ऊपर देखो  
(था १) ।

लोक वि [दे] सुप्त, सोया हुआ (दे ७, २३) ।

लोग पुं [लोक] मान-विशेष, श्रेणी से गुणित  
प्रतर (अणु १७३) । °यत देखो °यय  
(अणु ३६) ।

लोग देखो लोअ = लोक (ठा ३, २; ३,  
३—पत्र १४२; कप्प; कुमा; सुर १, ७६;  
हे १, १७७; प्रासू २५; ४७) । ७ न. एक  
देव-विमान (सम २५) । °कंत न [°कान्त]  
एक देव-विमान (सम २५) । °कूड न  
[°कूट] एक देव-विमान (सम २५) ।  
°गचूलिआ स्त्री [°प्रचूलिका] मुक्त-स्थान,  
सिद्धि-शिला (सम २२) । °जत्ता स्त्री  
[°यात्रा] लोक-व्यवहार, रोजी (गाया १,  
२—पत्र ८८) । °ट्टिइ स्त्री [°स्थिति] लोक-  
व्यवस्था (ठा ३, ३) । °द्वय न [°द्वय]  
जीव, अजीव आदि पदार्थ-समूह (भग) ।  
°नाभि पुं [°नाभि] मेरु पर्वत (सुज ५  
टी—पत्र ७७) । °नाह पुं [°नाथ] जगत्  
का स्वामी, परमेश्वर (सम १; भग) ।  
°परिपूरणा स्त्री [°परिपूरणा] ईपत्यागभारा  
पृथिवी, मुक्त-स्थान (सम २२) । °पाल पुं  
[°पाल] इन्द्रों के दिक्पाल, देव-विशेष (ठा  
३, १; श्रीप) । °पपभ पुं [°प्रभ] एक देव-  
विमान (सम २५) । °विंदुसार पुं न  
[°विन्दुसार] चौदहवाँ पूर्व-ग्रन्थ (सम  
४४) । °मज्झावसिअ पुं न [°मध्यावसित]  
अभिन्नप-विशेष (ठा ४, ४—पत्र २८५) ।  
°मज्झावसाणिअ पुं न [°मध्यावसानिक]  
वही अर्थ (राय) । °रूव न [°रूप] एक  
देव-विमान (सम २५) । °लेस न [°लेश्य]  
एक देव-विमान (सम २५) । °वण न  
[°वर्ण] एक देव-विमान (सम २५) ।

°वाल देखो °पाल (कुप्र १३५)। °वीर पुं [°वीर] भगवान् महावीर (उव)। °सिंग न [°शृङ्ग] एक देव-विमान (सम २५)। °सिट्ट न [°सृष्ट] एक देव-विमान (सम २५)। °हिअ न [°हित] एक देव-विमान (सम २५)। °यय न [°यत] नास्तिक-प्रणीत शास्त्र, चार्वाक-दर्शन (एदि)। °लोग पुंन [°लोक] परिपूर्ण आकाश-क्षेत्र, संपूर्ण जगत् (उव; पि २०२)। °वत्त न [°वत्त] एक देव-विमान (सम २५)। °हाण न [°ख्यान] लोकोक्ति, जन-श्रुति (उप ५३० टी)। लोगितिय देखो लोअतिय (पि ४६३)।

लोगिग देखो लोइअ = लौकिक (धर्मसं १२४८)।

लोगुत्तर देखो लोउत्तर। °वडिसय न [°वत्तसक] एक देव-विमान (सम २५)।

लोगुत्तर पुं [लोकोत्तर] मुनि, साधु। २ जिन-शासन, जैन सिद्धान्त (अणु २६)।

लोगुत्तरिअ वि [लोकौत्तरिक] १ साधु का। २ जिन शासन का (अणु २६)।

लोगुत्तरिय देखो लोउत्तरिय (श्रोष ७६५)।

लोहृ अक [स्वप्] लोटना, सोना। लोहृइ (हे ४, १४६)। वक्र. लोहृय° (पात्र)।

लोहृ अक [लुट्] १ लेटना। २ प्रवृत्त होना। लोहृइ, लोहृती (प्राकृ ७२; सूत्र १, १५, १४)। वक्र. लोहृंत (सुपा ४६६)।

लोहृ पुं [दे] १ कच्चा चावल (निच लोहृय ४)। २ पुंजी. हाथी का छोटा बच्चा (णया १, १—पत्र ६३), जी. °ट्रिया (णया १, १)।

लोहृअ वि [दे] उपविष्ट (दे ७, २५)।

लोहृ वि [दे] स्मृत (पड्)।

लोहृ पुं [लोष्ट] रोड़ा, ढेला (दे ७, २४)।

लोडाविअ वि [लोठित] बुमाया हुआ (गा ७६६)।

लोड सक [दे] कपास निकालना, लोडना; गुजराती में 'लोडु'। वक्र. लोडयंत (राज)।

लोड पुं [दे] १ लोड़ा, शिलापुत्रक, पीसने का पत्थर (दस ५, १, ४५; उवा)। २ श्रोष-विशेष, पश्चिमीकद (पत्र ४; आ

२०; संवोध ४४)। ३ वि. स्मृत। ४ शयित (दे ७, ७२६)।

लोडय पुं [दे. लोठक] कपास के बीज निकालने का यन्त्र (गडड)।

लोडिअ वि [लोठित] लेटवाया हुआ, सुलाया हुआ (पउम ६१, ६७)।

लोण न [लवण] १ लून, नमक। २ लावण्य, शरीर-कान्ति (गा ३१६; कुमा)। ३ पुं. वृक्ष-विशेष (पउम ४२, ७; आ २०; पत्र ४)। ४—देखो लवण (हे १, १७१; प्राप्र; गडड; श्रौप)।

लोणिय वि [लावणिक] लवण-युक्त, लवण-सम्बन्धी (श्रोष ७७६)।

लोण्य न [लावण्य] शरीर-कान्ति (प्राकृ ५)।

लोत्त न [लोत्त्र] चोरी का माल (स १७३)।

लोद्ध पुं [लोध्र] वृक्ष-विशेष (णया १, १—पत्र ६५; पण १; सूत्र १, ४, २, ७; श्रौप; कुमा)। देखो लुद्ध = लोध्र।

लोद्ध देखो लुद्ध = लुच्च (पात्र; सुर ३, ४७, १०, २२३; प्राप्र)।

लोप्प देखो लुप्प; 'जो एगं वायं लोप्पइ सो तिनवि लोप्पयंतो कि केणावि वरिडं पारीयइ' (स ४६२)।

लोभ सक [लोभय्] लुभाना, लालच देना। कवक्र. लोभिजंत (सुपा ६१)।

लोभ पुं [लोभ] लालच, लुण्णा (आचा; कप्य; श्रौप; उव; ठा ३, ४)। २ वि. लोभ-युक्त (पडि)।

लोभणय वि [लोभनक] लोभी, लालची (आचा २, १५, ५)।

लोभि } व [लोभिन्] लोभवाला (कम्म लोभिह } ४, ४०; पउम ४, ४६)।

लोम पुंन [लोम] रोम, रोंग्रां, हँगटा (उवा)। °पक्खि पुं [°पक्षिन्] रोम के पंखवाला पक्षी (ठा ४, ४—पत्र २७१)। °स वि [°श] लोम-युक्त (गडड)। °हत्थ पुं [°हस्त] पंखी, रोमों का बना हुआ भाड़ू (विपा १, ७—पत्र ७८; श्रौप; णया १, २)। °हरिस पुं [°हर्ष] १ नरकावास-विशेष (देवेन्द्र २७)। २ रोमाञ्च, रोमों का खड़ा होना (उत्त ५, ३१)। °हार पुं [°हार] मार कर घन लुटनेवाला चोर (उत्त ६, २८)। °हार पुं

[°हार] हँगटों से लिया जाता आहार, त्वचा से ली जाती खुराक (भग; सूत्रनि १७१)।

लोमंथिअ पुं. [दे] नट (नंदि टिप्पण वैनयिक बुद्धिगत १३ वां कथानक)।

लोमसी बी [दे] १ ककड़ी, खीरा (उप पृ २५२)। २ वल्ली-विशेष, ककड़ी का गाछ (वव १)।

लोय न [दे] सुन्दर भोजन, मिष्ठान (आचा २, १, ४, ३)।

लोर पुंन [दे] १ नेत्र, श्रांस। २ अश्रु, श्रांस (पिग)।

लोल अक [लुट्] १ लेटना। २ सक. विलोडन करना। लोलइ (पिड ४२२; पिग), 'लोलेइ खखसवल' (पउम ७१, ४०)। वक्र. लोलंत; लोलमाण (कप्य; पिग; पउम ५३, ७६)।

लोल सक [लोठय्] लेटाना। लोलेइ, लोलेमि (उवा)।

लोल वि [लोल] १ लम्पट, लुच्च, आसक्त (णया १, १ टी—पत्र ५; श्रौप; पात्र; कप्य; सुपा ३६५)। २ पुं. रत्न-प्रभा नरक का एक नरकावास (ठा ६—पत्र ३६५; देवेन्द्र ३०)। ३ शंकराप्रभा नामक द्वितीय नरक-पृथिवी का नववाँ नरकेन्द्रक—नरक-स्थान (देवेन्द्र ७)। °मज्झ पुं [°मध्य] नरकावास-विशेष (ठा ६ टी—पत्र ३६७)। °सिट्ट पुं [°शिष्ट] नरकावास-विशेष (ठा ६ टी)। °वत्त पुं [°वत्त] नरकावास-विशेष (ठा ६ टी; देवेन्द्र ७)।

लोलंठिअ न [दे] चाटू, बुशामद (दे ७, २२)।

लोळण न [लोळन] १ लेटना, घोलन (सूत्र १, ५, १, १७)। २ लेटवाना (उप ५१०)।

लोळपच्छ पुं [लोळपाक्ष] नरक-स्थान-विशेष (देवेन्द्र ३०)।

लोलिक न [लौल्य] लम्पटता, लोलुपता (पण १, ३—पत्र ४३)।

लोलिम पुंजी [लोळत्व] ऊपर देखो (कुमा)।

लोलुअ वि [लोलुप] १ लम्पट, लुच्च (पउम १, ३०; २६, ४७; पात्र; सुर १४, ३३)। २ पुं. रत्नप्रभा नरक का एक नरकावास

(ठा ६—पत्र ३६५) । °च्युअ पुं [°च्युत] रत्नप्रभा-नरक का एक नरक-स्वान (उवा) ।

लोलुंचाविअ वि [दे] रचित-तृष्ण, जिसने तृष्णा की हो वह (दे ७, २५) ।

लोलुव देखो लोलुअ (सूत्र २, ६, ४४) ।

लोच सक [लोपय्] लोप-करना, विव्वंस करना । लोवेइ (महा) ।

लोव पुंन [लोप] विव्वंस, विनाश, अदर्शन; 'कम-लोवकारया' (कुप्र ४), 'आ डुडे जासु वहि लोवं व तुमं अदंसणा होसु' (धर्मवि १३३) ।

लोह देखो लोभ = लोभ (कुमा; प्रातु १७६) ।

लोह पुंन [लोह] १ धातु-विशेष, लोहा (विपा १, ६—पत्र ६६; पात्र; कुमा) । २ धातु, कोई भी धातु; 'जह लोहाण सुवन्नं वणाण धन्नं वणाण रयणाइ' (सुपा ६३६) । °कार पुं [°कार] लोहार (कुप्र १८८) । °जंघ पुं [°जङ्घ] १ भारत में उत्पन्न द्वितीय प्रतिवासुदेव राजा (सम १५४) । २ राजा नरएडप्रद्योत का एक दूत (महा) । °जंघवण न [°जङ्घवन] मयुरा के समीप का एक वन (ती ७) ।

लोह वि [लोह] लोहे का, लोह-निर्मित (सि १४, २०) ।

लोहंगिणी स्त्री [लोहाङ्गिणी] छन्द-विशेष (पिम) ।

लोहल पुं [लोहल] शब्द-विशेष, अव्यक्त शब्द (पड्) ।

लोहार पुं [लोहकार] लोहार, लोहे का काम करनेवाला शिल्पी (दे ८, ७१; ठा ८—पत्र ४१७) ।

लोहिं } देखो लोही; 'कुंभोसु य पयणेसु लोहिअं } य लोहियसु य कंदुलोहिकुंभोसु' (सूत्रनि ८०; ७६) ।

लोहिअ पुं [लोहित] १ लाल रंग, रक्त-वर्ण । २ वि. रक्त वर्णवाला, लाल (सि २, ४; उवा) । ३ न. रविर, खून (पउम ५, ७६) । ४ गोत्र-विशेष, जो कौशिक गोत्र की एक शाखा है (ठा ७—पत्र ३६०) ।

लोहिअंक पुं [लोहित्यक, लोहिताङ्क] अठासी महाग्रहों में तीसरा महाग्रह (सुज्ज २०) ।

लोहिअक्ख पुं [लोहिताक्ष] १ एक महाग्रह (ठा २, ३—पत्र ७७) । २ चमरेन्द्र के महिप-सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२; इक) । ३ रत्न की एक जाति (साया १, १—पत्र ३१; कप्प; उत्त ३६, ७६) । ४ एक देव-विमान (वेवेन्द्र १३२; १४४) । ५ रत्नप्रभा पृथिवी का एक काण्ड (सम १०४) । ६ एक पर्वत-कूट (इक) ।

लोहिआ } अक [लोहिताय] लाल लोहिआअ } होना । लोहिआइ, ओहिआइइ (हे ३, १३८; कुमा) ।

लोहिआसुह पुं [लोहितामुख] रत्नप्रभा का एक नरकावास (स ८८) ।

लोहिच्च पुं [लोहित्य] आचार्य भूतदिन्न के शिष्य एक जैन मुनि (एदि ५३) ।

लोहिच्च } न [लोहित्यायन] गोत्र-विशेष लोहिचायण } (सुज्ज १०, १६ टी; इक; सुज्ज १०, १६) ।

लोहिणी स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष, कन्द-लोहिणीहू } विशेष (परण १—पत्र ३५), 'लोहिणीहू य धोहु य' (उत्त ३६, ६६; सुख ३६, ६६) ।

लोहिल्ल वि [दे. लोभिन्] लम्पट, लुब्ध (दे ७, २५; पउम ८, १०७; गा ४४४) ।

लोही स्त्री [लोही] लोहे का बना हुआ भाजन-विशेष, कराह (उप ८३३; चार १) ।

लहस देखो लस = लस् । लहसइ (प्राकृ ७२) ।

लहस अक [संस] खिसकना, सरकना, गिर पड़ना । लहसइ (हे ४, १६७; पड्) । वक्र. लहसंत (वज्जा ६०) ।

लहसण न [संसन] खिसकना, पतन (सुपा ५५) ।

लहसाव सक [संसय्] खिसकाना । संक्र. लहसाविअ (सुपा ३०८) ।

लहसाविअ वि [संसित] खिसकाया हुआ (कुमा) ।

लहसिअ वि [सस्त] खिसक कर गिरा हुआ (कुप्र १८७; वज्जा ८४) ।

लहसिअ वि [दे] हाँपत (चंड) ।

लहसुण देखो लमुण (परण १—पत्र ४०; पि २१०) ।

लहादि स्त्री [ह्लादि] आह्लाद, प्रमोद, खुशी (राज) ।

लहाय पुं [ह्लाद] ऊपर देखो (धर्मसं २१६) ।

लहासिय पुं [लहासिक] एक अनायं मनुष्य-जाति (परह १, १—पत्र १४) ।

ल्लिहक अक [नि + ली] छिपना । ल्लिहकइ (हे ४, ५५; पड् २०६) । वक्र. ल्लिहकंत (कुमा) ।

ल्लिहक वि [दे] १ नष्ट (हे ४, २५८) । २ गत (पड्) ।

॥ इय तिरिपाइअसद्महण्णवम्मि लयाराइसद्सकलणो चउत्तीसइमो तरंगो समत्तो ॥

## व

व पुं [व] ? अन्तस्व व्यञ्जन वणं-विशेष, जिसका उच्चारणत्यान दन्त और ओष्ठ हैं (प्राप; प्रामा) । २ पुंन. वरण (से १, १; २, ११) ।

व ग्र [व] देखो इव (से २, ११; गा १८; ६३; ६४; ७६; कुमा; हे २, १८२; प्रासू २) ।

व देखो वा = व (हे १, ६७; गा ४२; १६४; कुमा; प्रासू २६; भवि) ।

व देखो वाया = वाच् । °क्खेवअ वि [°क्षेपक] वचन का निरसन—खण्डन (गा १४२ अ) । °पइराय पुं [°पतिराज] एक प्राचीन कवि. 'गडडवहो' काव्य का कर्ता (गडड) ।

वअणीआ वी [दे] ? उन्मत्त वी । २ दुःखील वी (पड्) ।

वअल अक [प्र + सृ] पसरना, फैलना । वअलइ (पड्) ।

वआड देखो वायाड = वाचाट (संक्षि २) ।

वइ अ [वै] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ अवधारण, निश्चय (विसे १८००) । २ अनुनय । ३ संवोधन । ४ पावपूति (चंड) ।

वइ अ [दे] वदि, कृपण पक्ष; 'फग्गुणवइ-छट्टीए' (सुपा ८६) ।

वइ वि [व्रतिन्] व्रतवाला, संयमी (उव; सुपा ४३६) । वी. °णी (उप ५७१) ।

वइ वी [वाच्] वाणी, वचन (सम २५; कप्प; उप ६०४; आ ३१; सुपा १८४; कम्म ४, २४; २७; २८) । °गुत्त वि [°गुप्त] वाणी का संयमवाला (आचा; उप ६०४) । °गुत्ति वी [°गुप्ति] वाणी का संयम (आचा) । °जोअ, °जोग पुं [°योग] वचन-व्यापार (भग; पइह १२) । °जोगि वि [°योगिन्] वचन-व्यापारवाला (भग) । °मंत वि [°मन्] वचनवाला (आचा २, १, ६, १) । °मेत्त न [°मात्र] निर्यक वचन (धर्मसं २८४; २८५; ८४४) । देखो वई ।

वइ वी [वृति] वाइ, कांटे आदि से बनाई जाती स्थानपरिवि, घेरा; 'वन्ताणं रक्खट्टा कीरंति वईशो' (आ १०; गडड; गा ६६; उप ६४८; पउम १०३, १११; वजा ८३), 'उच्छू वोलंति वई' (धर्मवि ५३; संवोध ४२) ।

°वइ देखो पइ = पति (गा ६६; से ४, ३४; कप्प; कुमा) ।

वइ° देखो वय = वद् ।

वइ° देखो वय = वज् ।

वइअ वि [दे] ? पीत, जिसका पान किया गया हो वह (दे ७, ३४) । २ आच्छादित, ढका हुआ; 'पच्छाइअत्तुमिआइं वइआइं' (प्राप्र) ।

वइअ वि [व्ययित] जिसका व्यय किया गया हो वह, 'किमिह वव्वेण वइएणं वहुएणं' (सुपा ५७८; ७३; ४१०) ।

वइअव्भ पुं [वैद्वर्भ] ? विद्वर्भ देश का राजा । २ वि. विद्वर्भ देश में उत्पन्न (पड्) ।

वइअर पुं [व्यतिकर] प्रसङ्ग, प्रस्ताव (सुर ४, १३६; महा) ।

वइअव्व देखो वय = वज् ।

वइआ वी [व्रजिका] छोटा गोकुल (पिड ३०६; सुख २, ५; मोघ ८४) ।

वइआलिअ वि [वैतालिक] मंगल-स्तुति आदि से राजा को जगानेवाला मागध आदि (हे १, १५२) ।

वइआलीअ पुंन [वैतालीय] छन्द-विशेष (हे १, १५१) ।

वइएस वि [वैदेश] विदेश-संबन्धी, परदेशी (पउम ३३, २४; हे १, १५१; प्रासू ६) ।

वइएह पुं [वैदेह] ? वरिष्क, वैश्य । २ शूद्र पुरुष और वैश्य वी से उत्पन्न जाति-विशेष । ३ राजा जनक । ४ वि. देह-रहित से संबन्ध रखनेवाला । ५ मिथिला देश का (हे १, १५१; प्रासू ६) ।

वइंगण न [दे] वैगन, वृत्ताक, भंटा (दे ६, १००) ।

वइकच्छ पुं [वैकक्ष] उत्तरासंग (औप) ।

वइकलिअ न [वैकलय] विकलता (प्राप्र) ।

वइकुंठ पुं [वैकुण्ठ] ? उपेन्द्र, विष्णु (प्राप्र) । २ लोक-विशेष, विष्णु का धाम (उप १०३१ टी) ।

वइकंत वि [व्यतिक्रान्त] ध्यतोत्त, गुजरा हुआ (पउम २, ७४; उवा; पडि) ।

वइकम पुं [व्यतिक्रम] विशेष उल्लंघन, व्रत-चोप-विशेष (ठा ३, ४—पत्र १५६; पव ६, टी; पउम ३१, ६१) ।

वइगरणिय पुं [वैकरणिक] राज-कर्मचारि-विशेष (सुपा ५४८) ।

वइगा देखो वइआ (सुख २, ५; वृह ३) ।

वइगुण्ण न [वैगुण्य] ? वैकल्य, अपरि-पूर्णता, असंपन्नता (धर्मसं ८८४) । २ विप-रोतपन, निपर्वय (राज) ।

वइचित्त न [वैचित्त्य] विचित्रता (विसे ३११; धर्मसं ६५) ।

वइजवण वि [वैजवन] गोत्र-विशेष में उत्पन्न (हे १, १५१) ।

वइणी देखो वइ = व्रतिन् ।

वइतुलिय वि [वैतुलिक] तुल्यता-रहित (निचू ११) ।

वइत्तए } देखो वय = वद् ।  
वइत्ता }

वइत्ता देखो वय = वच् ।

वइत्तु वि [वदित्] बोलनेवाला, 'मुसं वइत्ता भवति' (ठा ७—पत्र ३८६) ।

वइद्वभ देखो वइअव्भ (हे १, १५१) ।

वइदिस पुं [वैदिश] ? अवन्ती देश, मालव देश; 'वइदिस उज्जेणीए जियपडिमा एलमच्छं च' (उप २०२) । २ वि. विदिशा-संबन्धी (वृह ६) ।

वइदंस देखो वइएस (प्राप्र) ।

वइदेसिअ वि [वैदेशिक] विदेशीय, परदेशी (संक्षि ५; कुप्र ३८०; सिरि ३६३; पि ६१) ।

वइदेह देखो वइएह (प्राप्र) ।

वइदेही-ह्री [वैदेही] १ राजा जनक की ह्री, सीता की माता (पउम २६, ७५) । २ जन-कात्मजा, सीता । ३ हरिद्रा, हल्दी । ४ पिप्पली, पीपल । वणिक-ह्री (संति ५) ।  
 वइधम्म न [वैधर्म्य] विरुद्धधर्मता, विपरीत-पन (विसे ३२२८) ।  
 वइमिस्स वि [व्यतिमिश्र] संमिलित (आचा २, १, ३, २) ।  
 वइर देखो वेर = वैर (हे १, १५२) ।  
 वइर पुंन [वज्र] १ रत्न-विशेष, हीरक, हीरा (सम ६३; औप; कप्प; भग; कुमा) । २ इन्द्र का अस्त्र (पइ) । ३ एक देव-विमान (वेवेन्द्र १३३; सम २५) । ४ त्रिद्युत, विजली (कुमा) । ५ पुं. एक सुप्रसिद्ध जैन महर्षि (कप्प; हे १, ६; कुमा) । ६ कोकिलाक्ष वृक्ष । ७ रवेत कुशा । ८ श्रीकृष्ण का एक प्रपौत्र । ९ न. बालक, शिशु । १० धात्री । ११ कांजी । १२ वज्रपुष्प । १३ एक प्रकार का लोहा । १४ अन्न-विशेष । १५ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग (हे २, १०५) । १६ कौलिका, छोटी कौल (सम १४६) । १७ कंड न [काण्ड] रत्नप्रभा पृथिवी का एक वज्ररत्न-मय काण्ड (राज) । १८ कंत न [कान्त] एक देव-विमान (सम २५) । १९ कूड न [कूट] १ एक देव-विमान (सम २५) । २ देवी-विशेष का आवासभूत एक शिखर (राज) । ३ जंव पुं [जङ्ग] १ भरत-क्षेत्र में उदारान्त वृत्तीय प्रतिवासुदेव (सम १५४) । २ पुष्कलावती विजय के लोहारंगल नगर का एक राजा (आव) । ३ पपभ न [प्रभ] एक देव-विमान (सम २५) । ४ मज्झा ह्री [मध्या] प्रतिमा-विशेष, एक प्रकार का व्रत (ठा ४, १—पत्र १६५) । ५ ह्व न [रूप] एक देव-विमान (सम २५) । ६ लेस न [लेइय] एक देव-विमान (सम २५) । ७ वणन न [वर्ण] देव-विमान-विशेष (सम २५) । ८ सिंग न [सिङ्ग] एक देव-विमान का नाम (सम २५) । ९ सिंह पुं [सिंह] एक राजा (काल; पि ४००) । १० सिट्ट न [सिट्ट] एक देव-विमान (सम २५) । ११ सीह देखो सिंह (काल) । १२ सेण पुं [सेन] एक प्राचीन जैन महर्षि, जो

वज्रस्वामी के शिष्य थे (कप्प) । १३ सेणा ह्री [सेना] १ एक इन्द्राणी, दक्षिणव्य वानव्यन्तरेन्द्र की एक अग्र-महिषी (आया २—पत्र २५२) । २ एक दिक्कुमारी देवी (इक) । ३ हर पुं [घर] इन्द्र (पइ) । ४ मय वि [मय] वज्र रत्नों का बना हुआ (सम ६३; औप; पि ७०; १३५), ह्री. ५ मई, ६ मती (जोव ३; पि २०३ टि ४) । ७ वत्त, न [वत्त] एक देव-विमान (सम २५) । ८ सेभनाराय न [सृष्टपभनाराय] संहनन-विशेष (सम १४६; भग) । देखो वज्ज = वज्र ।  
 वइरा ह्री [वज्रा] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) ।  
 वइराग न [वैराग्य] विरक्ति, उदासीनता (पउम २६, २०) ।  
 वइराड पुं [वैराट] १ एक आर्य देश । २ न. प्राचीन भारतीय नगर-विशेष, जो मध्य देश की राजधानी थी; 'वइराड मच्छ वरुणा अच्छा' (पव २७५) ।  
 वइराय देखो वइराग (भवि) ।  
 वइरि १ वि [वैरिन्] दुश्मन, रिपु (सुर वइरिअ) १, ७; काल; प्रासू १७४) ।  
 वइरिक्क न [दे] विजन; एकांस्त स्यान; देखो पइरिक्क; 'अहिअं सुरणाइ निरंजणाइ वइरिक्कएणपुसिआइ' (गा ८७०) ।  
 वइरिन्त वि [व्यतिरिक्त] भिन्न, अलग (सुर १२, ४४; वेइय ५६४) ।  
 वइरी ह्री [वज्रा] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) ।  
 वइरुइ ह्री [वैरोइया] १ एक विद्या-देवी (संति ६) । २ भगवान् मल्लिनाथजी की शासन-देवी (संति १०) ।  
 वइरुत्तरवडिसग न [वज्रोत्तरावतंसक] एक देव-विमान (सम २५) ।  
 वइरेअ १ पुं [व्यतिरेक] १ अभाव (धर्मसं वइरेग) ११२) । २ साध्य के अभाव में हेतु का नितान्त अभाव (धर्मसं ३६२; उप ४१३; विसे २६०; २२०४) ।  
 वइरोअण पुं [वैरोचन] १ अग्नि, वहि (सूय १, ६, ६) । २ बलि नामक इन्द्र (वेवेन्द्र ३०७) । ३ उत्तर दिशा में रहनेवाले असुर-

निकाय के देव (भग ३; १; सम ७४) । ४ पुंन. एक लोकांतिक देव-विमान (पव २६७, सम १४) ।  
 वइरोअण पुं [दे] बुद्ध देव (दे ७, ५१) ।  
 वइरोड पुं [दे] जार, उपपत्ति (दे७, ४२) ।  
 वइवल्लय पुं [दे] संप की एक जाति, दुन्दुभ संप (दे ७, ५१) ।  
 वइवाय पुं [व्यतीपात] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग (राज) ।  
 वइवेला ह्री [दे] सीमा (दे ७, ३१) ।  
 वइस देखो वइस्स = वैश्य;  
 'वाणिककरिसणाइगोरक्खणपालणेमु उज्जुत्ता । ते होंति वइसनामा वावारपरायणा वीरा' (पउम ३, ११६) ।  
 वइसइअ वि [वैषयिक] विषय से उत्पन्न, विषय-संबन्धी (संति ५) ।  
 वइसंपायण पुं [वैशम्पायन] एक ऋषि, जो ध्यास का शिष्य था (हे १, १५१; प्राप्र) ।  
 वइसम्म पुंन [वैषम्य] विषमता, 'वइसम्मो' (संति ५; पि ६१) ।  
 वइसवण पुं [वैश्रवण] कुवेर (हे १, १५२; भवि) ।  
 वइसस न [वैशस] रोमाञ्चकारी पाप-कृत्य (उप ५७५) ।  
 वइसानर देखो वइसाणर (धम्म १२ टी) ।  
 वइसाल देखो [वैशाल] विशाला में उत्पन्न (हे १, १५१) ।  
 वइसाह पुं [वैशाख] १ मास-विशेष (सुर ४, १०१; भवि) । २ मन्थन-दण्ड । ३ पुंन. योद्धा का स्यान-विशेष (हे १, १५१; प्राप्र) ।  
 वइसाही देखो वेसाही (राज) ।  
 वइसिअ वि [वैशिक] वेप से जीविका उपाजन करनेवाला (हे १, १५२; प्राप्र) ।  
 वइसिट्ट न [वैशिष्ट्य] विशिष्टता, भेद (धर्मसं ६६) ।  
 वइसेसिअ न [वैशेषिक] १ दर्शन-विशेष, कणाद-दर्शन (विसे २५०७) । २ विशेष; 'जोएज्ज भावओ वा वइसेसियलक्खणं चउहा' (विसे २१७८) ।  
 वइस्स पुं [वैश्य] वर्ण-विशेष, वणिक, महाजन (विपा १, ५) ।



वइस्स वि [द्वेण्य] अप्रीतिकर (उत्त ३२, १०३) ।

वइस्सदेव पुं [वैश्वदेव] वैश्वानर, अग्नि (निर ३, १) ।

वइस्साणर पुं [वैश्वानर] १ वडि, अग्नि । ३ चित्रक वृक्ष । ३ सामवेद का अवयव-विशेष (हे १, १५१) ।

वइ देवो वइ = वाच् (आचा) । °मय वि [°मय] वचनात्मक (दस ६, ३, ६) ।

वइअ वि [व्यतीत] अतीत, गुजरा हुआ । °सोग पुं [°शोक] एक जैन मुनि (पज्म २०, २०) ।

वइवय सक [व्यति + व्रज्] जाना, गमन करना । वक्र. 'कोल्लायस्स संनिवेस्स अदूर-सामंतेणं वइवयमाणे बहुजणसइं निसामेइ (उवा) ।

वइवाय देवो वइवाय (राज) ।

वउ पुं [दे] लावण्य, शरीर-कान्ति; 'वउ अ लायणे' (दे ७, ३०) ।

वउ न [वपुष्] शरीर, देह (राज) ।

वउलिअ वि [दे] शूल-प्रोत (दे ७, ४४) ।

वएमाण देवो वय = वद् ।

वओ° देवो वय = वचस् (आचा) । °मय न [°मय] वाङ्मय, शास्त्र (विसे ५५१) ।

वओ° देवो वय = वयस् (पज्म ४८, ११५) ।

वओवरएण पुं [दे] विपुत्रत्, समान वओवरथ } रात और दिनवाला काल (दे ७, ५०) ।

वं° देवो वाया = वाच् । °नियम पुं [°नियम] वाणी की मर्यादा (उप ७२८ टी) ।

वंक वि [वङ्क, वक्र] १ वांका, टेढ़ा, कुटिल (कुमा सुपा १७२; पि ७४) । २ नदी का वांक (हे १, २६; प्राप्र) ।

वंक पुं [दे] कलंक, दाग (दे ७, ३०) ।

°वंक देवो वंक (से ६, २६; गउड) ।

वंकचूल पुं [वङ्कचूल] एक प्रसिद्ध राज-कुमार (धर्मवि ५२; पडि) ।

वंकचूलि पुं [वङ्कचूलि] ऊपर देखो, तम्रो गया वंकचूलिणी गेहे (धर्मवि ५३; ५६; ६०) ।

वंकण न [वङ्कण, वक्रण] वक्तीकरण, कुटिल वनाता (ठा २, १—पत्र ४०) ।

वंकिअ वि [वक्रित] वांका किया हुआ (से ६, ५६) ।

°वंकिअ वि [पङ्कित] पंक-युक्त (से ६, ५६) । वंकिम पुं [वक्रिमन्] वक्रता, कुटिलता (पि ७४; हे ४, ३४४; ४०१) ।

वंकुड } देखो वंक = वंक; 'विविहविसविड-वंकुण } विनिग्गयवंकुडतिकस्सगकंठइए। एया-रिस्सिमि य वणे' (स २५६; हे ४, ४१८; भवि; पि ७४) ।

वंकुभ (शौ) ऊपर देखो (प्राक् ६७) ।

वंग न [दे] वृत्ताक, भंडा (दे ७, २६) ।

वंग वि [व्यङ्ग] विकृत श्रंग, 'ववगय-वलीपलियवंगदुव्वन्नवाधिदोहंगसोममुक्काओ' (पएह १, ४—पत्र ७६) ।

वंगच्छ पुं [दे] प्रमय, शिव का अनुचर-विशेष (दे ७, ३६) ।

वंगण न [व्यङ्गण] क्षत (राज) ।

वंगिय वि [व्यङ्गित] विकृत शरीरवाला (राज) ।

वंगेवडु पुं [दे] सूकर, सूअर (दे ७, ४२) ।

वंच सक [वञ्च्] ठगना । वंचइ (हे ४, ६३; पडि; महा) । कर्म. वंचिजइ (भवि) ।

संक्र. वंचिऊण (महा) । क. वंचणीअ (प्राप्र) । प्रयो., वक्र. 'तो सो वंचाविंती कुमरपहारं वपइ पुरवाहिं' (सुपा ५७२) ।

वंच (अप) देखो वञ्च = व्रज् । वंचइ (प्राक् ११६) । संक्र. वंचिवि (भवि) ।

वंच सक [उद् + नमय्] ऊंचा उठाना । वंचइ (?) (वात्वा १५१) ।

वंच वि [वञ्च्] ठगनेवाला, घुत्तं; 'कुडिलत्तणं च वंक्तणं च वंचत्तणं असच्चं च' (वज्जा ११६; हे ४, ४१२) ।

वंचअ } वि [वञ्च्] ऊपर देखो (नाट—वंचग } मालवि; आ २८) ।

वंचण न [वञ्चण] १ प्रतारण, ठगई (सम्मत्त २१७) । २ वि. ठगनेवाला, ठग (संबोध ४१) । °चण वि [°चण] ठगने में चतुर (सम्मत्त २१७) ।

वंचणा स्त्री [वञ्चना] प्रतारणा (उव; कप्पु) ।

वंचिअ वि [वञ्चित] १ प्रतारित (पाप्र) । २ रहित, वञ्जित (गउड) ।

वंछा स्त्री [वाञ्छा] इच्छा, चाह (सुपा ४०४) ।

वंज सक [वि + अञ्ज्] व्यक्त करना, प्रकट करना । कर्म. वंजिजइ (विसे १६४; ४६३; धर्मसं ५३) ।

वंज देखो वंच = उद् + नमय् । वंजइ (?) (वात्वा १५१) ।

वंज देखो वंद = वन्द ।

वंजग देखो वंजय (राज) ।

वंजण न [व्यञ्जन] १ वणं, अक्षर; 'अणक्खरं होज्ज वंजणक्खरओ' (विसे १७०), 'तो नत्थि अत्थमेओ वंजणरयणा परं भिन्ना' (चिइय ८६६) । २ स्वर-भिन्न अक्षर, क से ह तक वणं (विसे ४६१; ४६२) । ३ शब्द, पद; 'सो पुण समासओ चिअ वंजणनिअओ य अत्थनिअओ अ' (सम्म ३०; सूअनि ६; पडि; विसे १७०) । ४ तरकारी, कढ़ी आदि रस-व्यञ्जक वस्तु (सुपा ६२३; शोध ३५६) ।

५ शुक, वीर्यं (विसे २२८) । ६ शरीर का मसा आदि चिह्न (पव २५७; श्रौप) । ७ मसा आदि शरीर-चिह्नों के फल का उपदेशक शास्त्र (सम ४६) । ८ कक्षा आदि के बाल (राज) ।

९ प्रकाशन, व्यक्तीकरण (विसे ४६१) । १० श्रोत्रादि इन्द्रिय । ११ शब्द आदि द्रव्य । १२ द्रव्य और इन्द्रिय का संबन्ध (एदि, विसे २५०) । °वग्गह, °वग्गह पुं [°वग्रह] ज्ञान-विशेष, चक्षु और मन को छोड़ कर अन्य इन्द्रियों से होनेवाला ज्ञान-विशेष (कम्म १, ४; ठा २, १) ।

वंजय वि [व्यञ्जक] व्यक्त करनेवाला (भास २६) ।

वंजर पुं [माज्जर] विल्ला, विलार (हे २, १३२; कुमा) ।

वंजर न [दे] नीवी, कटी-बन्ध (दे ७, ४१) ।

वंजिअ वि [व्यञ्जित] व्यक्त किया हुआ, प्रकटित (कुमा १, १८; २, ६६) ।

वंजुल पुं [वञ्जुल] १ अशोक वृक्ष (गा ४२२; स १११) । २ वेतस वृक्ष (पाप्र); 'वंजुलसंगेण विसं व पन्नगो मुयइ सो पार्व' (धम्म ११ टी; वज्जा ६६; उप ७२८ टी) । ३ पक्षि-विशेष (पएह १, १—पत्र ८) ।

वंजुलि वि [ वञ्जुलिन् ] वेतस वृक्षवाला ।  
 वी. °णी (गउड) ।  
 वंभ वि [ वन्ध्य ] शून्य, वर्जित (कुमा) ।  
 वंभ्रा वी [ वन्ध्या ] वांभ वी, अपुत्रवती वी  
 (पउम २६, ८३; सुपा ३२४) ।  
 वंठ न [ वृन्त ] फल या पत्तों का वन्धन (पिंड  
 ४५) ।  
 वंठग पुं [ वण्टक ] वांठ, विभाग (निचू १६) ।  
 वंठ पुं [ दे ] १ अकृत-विवाह, अविवाहित-  
 गुजराती में 'वांठो' (दे ७, ८३; श्रोष २१८) ।  
 २ खण्ड, टुकड़ा । ३ गण्ड (दे ७, ८३) ।  
 ४ भृत्य, दास (दे ७, ८३; सुर २, १६८;  
 रयण ८३; सिरि १११५) । ५ वि. निःस्नेह,  
 स्नेह-रहित (दे ७, ८३) । ६ घूर्त, ठग  
 (श्रा १२) ।  
 वंठ वि [ वण्ठ ] खं, वामन, नाटा, बौना  
 (हे ४, ४४७) ।  
 वंठण (अप) न [ वण्टन ] वांठना, विभाजन  
 (पिग) ।  
 वंडइअ वि [ दे ] पीडित (पड्) ।  
 °वंडु देखो पंडु (गा २६५) ।  
 वंडुअ न [ दे ] राज्य (दे ७, ३६) ।  
 °वंडुर देखो पंडुर (गा ३७४) ।  
 वंड पुं [ दे ] वन्ध (दे ७, २६) ।  
 वंठ वि [ वान्त ] पतित, गिरा हुआ (दस ३,  
 १ टी) ।  
 वंठ पुं [ वान्त ] १ जिसका वमन किया गया  
 हो वह (उव) । २ पुंन. वमन; 'वंते इ वा  
 पित्ते इ वा' (भग) ।  
 वंठर पुं [ वयन्तर ] एक देव-जाति (दं २७;  
 महा) ।  
 वंठरिअ पुं [ वयन्तरिक ] ऊपर देखो (भग) ।  
 वंठरिणी वी [ वयन्तरी ] वयन्तर-जातीय देवी  
 (सुपा ६१३) ।  
 वंठा देखो वम ।  
 °वंति देखो पन्ति (गा २७८; ४६३) ।  
 °वंथ देखो पन्थ (सि १, १६; ३, ४२; १३,  
 २०; पि ४०३) ।  
 वंद सक [ वन्द ] १ प्रणाम करना । २  
 स्तवन करना । वंदइ (उव; महा; कप्प) ।

वक्र. वन्दमाण (श्रोष १८; सं १०; अग्नि  
 १७२) । कवक्र. वन्दिजमाण (उप ६८६  
 टी; प्रासू १६५) । संक्र. वन्दिअ, वन्दिओ,  
 वन्दिऊण, वन्दिता, वन्दित्तु, वंदेवि  
 (कम्म १, १; चंड; कप्प; पड्; हे ३, १४६;  
 चंड) । हेक्र. वंदित्तए (उवा) । कृ. वंज,  
 वंद, वंदणिज्ज, वंदणीअ, वंदिम (राज;  
 अजि १४; द्रव्य १; राया १, १; प्रासू १६२;  
 नाट—मृच्छ १३०; दसजू १) ।  
 वंद न [ वृन्ड ] समूह, यूय (पउम १, १;  
 श्रोप; प्राप्र) ।  
 वंदअ } वि [ वन्दक ] वन्दन करनेवाला  
 वंदग } (पउम ६, ५८; १०१, ७३; महा;  
 श्रोप; सुख १, ३) ।  
 वंदण न [ वन्दन ] १ प्रणामन, प्रणाम । २  
 स्तवन, स्तुति (कप्प; सुर ४, ६२; उव) ।  
 °कलस पुं [ °कलश ] मांगलिक घट (श्रोप) ।  
 °वड-पुं [ °घट ] वही अर्थ (श्रोप) । °माला,  
 °मालिआ वी [ °माला ] घर के द्वार पर  
 मंगल के लिए बँधी जाती पत्र-माला (सुपा  
 ५४; सुर १०, ४; गा २६२) । °वडिआ,  
 °वन्तिआ वी [ °प्रत्यय ] वन्दन-हेतु (सुपा  
 ४३२, पडि) ।  
 वंदणा वी [ वन्दना ] १ प्रणाम । २ स्तवन  
 (पंचा ३, २; परह २, १—पत्र १००;  
 अंत) ।  
 वंदणिया वी [ दे ] मोरी, नाला, पनाला;  
 'अत्थि कंबलो, गरियाए नेमि । मुक्को । तओ  
 तोसे दिन्नो । तीए चं (? वं) दरियाए छूडो'  
 (सुख २, १७) ।  
 वंदर देखो वंद = वृन्द (प्राप्र) ।  
 वंदाप (अशो) देखो वंदाव । वंदापयति (पि  
 ७) ।  
 वंदारय पुं [ वृन्दारक ] १ देव, देवता  
 (पाय; कुमा) । २ वि. मनोहर (कुमा) ।  
 ३ मुख्य, प्रवान (हे १, १३२) ।  
 वंदारु वि [ वन्दारु ] वन्दन करनेवाला (चेइय  
 ६२१, लहुअ) ।  
 वंदाव सक [ वन्दय ] वन्दन करवाना ।  
 वंदावइ (उव) ।  
 वंदावणग न [ वन्दन ] वन्दन, प्रणाम (श्रावक  
 ३७४) ।

वंदिअ देखो वंद = वन्द ।  
 वंदिअ वि [ वन्दित ] जिसको वन्दन किया  
 गया हो वह (कप्प; उव) ।  
 वंदिम देखो वंद = वन्द ।  
 वंदुरा वी [ मन्दुरा ] वाजिशाला, घुड़साल,  
 अस्तबल ।  
 वंद्र न [ वन्द्र ] समूह, यूय (हे १, ५३; २,  
 ७६; पउम ११, १२०; स ६६६) ।  
 वंध पुं [ वन्ध्य ] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-  
 विशेष (सुज्ज २०) ।  
 वंफ सक [ काङ्क्ष ] चाहना, अभिलाष  
 करना । वंफइ, वंफए, वंफति (हे ४, १६२;  
 कुमा) ।  
 वंफ अक [ वल् ] लौटना । वंफइ (हे ४,  
 १७६; पड्) ।  
 वंफि वि [ वलिन् ] १ लौटनेवाला । २ नीचे  
 गिरनेवाला (कुमा) ।  
 वंफिअ वि [ काङ्क्षित ] अभिलषित (कुमा) ।  
 वंफिअ वि [ दे ] भुक्त, खाया हुआ (दे ७,  
 ३५; पाय) ।  
 वंस पुं [ दे ] कलंक, दाग (दे ७, ३०) ।  
 वंस पुं [ वंश ] १ वांस, वेणु (परह २, ५—  
 पत्र १४६; पाय) । २ वाद्य-विशेष: 'वाइओ  
 वंसो' (कुमा २, ७०; राय) । ३ कुल;  
 'बुलुगवंसदीवओ' (कुमा २, ६१) । ४ सन्तान,  
 संतति । ५ पृथावयव, पीठ का भाग । ६  
 वर्ग । ७ इधु, ऊख । ८ वृक्ष-विशेष, सालवृक्ष  
 (हे १, २६०) । °इरि पुं [ °गिरि ] पर्वत-  
 विशेष (पउम ३६, ४) । °करिल्ल, °गरिल्ल  
 पुंन [ °करील ] वंशकुर, वांस का कोमल  
 नवावयव (श्रा २०; पव ४) । °जाली,  
 °याली वी [ °जाली ] वांसों का गहन घटा  
 (सुर १२, २००; उप पृ ३६) । °रोअणा  
 वी [ °रोचना ] वंशलोचन (कप्प) ।  
 वंसकवेल्लुय पुंन [ दे. वंशकवेल्लुक ] छत  
 के नीचे दोनों तरफ तिरछा रखा जाता वांस  
 (जोव ३; राय) ।  
 वंसग देखो वंसय (राज) ।  
 वंसफाल वि [ दे ] १ प्रकट, व्यक्त । २ अज्ञ,  
 सरल (दे ७, ४८) ।  
 वंसय वि [ वयंसक ] १ घूर्त, ठग । २ पुं-  
 दुष्ट हेतु-विशेष (ठा ४, ३—पत्र २५४) ।

वंसा स्त्री [वंशा] द्वितीय नरक-पृथिवी (ठा ७—पत्र ३८८; इक) ।

वंसि° देखो वंसी = वंश (कम्म १, २०) ।

वंसिअ वि [वंशिक] वंश-वाद्य वजनिवाला (हे १, ७०; कुमा) ।

वंसिअ वि [वंसित] छलित, प्रतारित (राज) ।

वंसी स्त्री [वंशी] ? सुरा-विशेष (वृह २) ।

२ वॉस की जाली (ठा ३, १—पत्र १२१) ।

°कलंका स्त्री [°कलङ्का] वॉस की जाली की बनी हुई वाड़ (विपा १, ३—पत्र ३८) ।

°पत्तिया स्त्री [°पत्तिका] योनि-विशेष, वंशजाली के पत्र के आकार की योनि (ठा ३, १) ।

वंसी स्त्री [वंशी] वाद्य-विशेष, मुरली (वृह २) । °णहिया स्त्री [°नखिका] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३८) । °मुह पुं [°मुख] द्वीन्द्रिय जीव-विशेष (जीव १ टी—पत्र ३१) ।

वंसी स्त्री [वंश] वॉस । °मूल न [°मूल] वॉस की जड़ (कस) ।

वंसी स्त्री [वे] मस्तक पर स्थित माला (दे ७, ३०) ।

वक्क न [वाक्य] पद-समुदाय, शब्द-समूह (उव; उप ८३३; ८५६) ।

वक्क न [वलक] त्वचा, छाल (उप ८३६; औप) । °बंध पुं [°बन्ध] वल्क-बन्धन (विपा १, ८) ।

वक्क देखो वंक्क = वंक्क (साया १, ८—पत्र १३३; स ६११; वमंसं ३४८; ३४६) ।

वक्क न [वक्क] मुख, मुँह (पउम १११, १७; गा १६४) ।

वक्क न [दे] पिष्ट, पिसान, आटा (पड्) ।

वक्कंत पुंन [वक्कान्त] प्रथम नरक-भूमि का दसवाँ नरकेन्द्रक—नरकावास-विशेष (देवेन्द्र ५) ।

वक्कंत वि [अवक्कान्त] उत्पन्न (कप्प; पि १४२) ।

वक्कंति स्त्री [अवक्कान्ति] उत्पत्ति (कप्प; सम २; भग) ।

वक्कड न [दे] ? दुदिन । २ निरन्तर वृष्टि (दे ७, ३५) ।

वक्कडबंध न [दे] कर्णभरण, कान का आभूषण (दे ७, ५१) ।

वक्कम अक [अव + क्रम्] उत्पन्न होना ।

वक्कमइ (भग; कण) । भूका, वक्कमिमु (कण) ।

भवि, वक्कमिस्संति (कण) । वक्क, वक्कममाण (भग; साया १, १—पत्र २०) ।

वक्कर (अप) देखो वक्क = वंक्क (भवि) ।

वक्कल न [वलकल] वृक्ष की छाल (प्राप; सुपा २५२; हे ४, ३४१; ४११; प्रति ५) ।

°चीरि पुं [°चीरिन्] एक महर्षि, जो राजा प्रचन्नचन्द्र के छोटे भाई थे (कुप्र २८६) ।

वक्कलि ) वि [वलकलिन्] वृक्ष की छाल  
वक्कलिण } पहननेवाला (तापस), (कुमा; भत १००; संवोध २१; पउम ३६, ८४) ।

वक्कल्लय वि [दे] पुरस्कृत, आगे किया हुआ (दे ७, ४६) ।

वक्कस न [दे] ? पुराना धान का चावल । २ पुरातन सक्कु-पिएड । ३ बहुत दिनों का बासी गोरस । ४ गेहूँ का मॉड (आचा १, ६, ४, १३) ।

वक्किद् (शौ) देखो वंकिअ (पि ७४) ।

वक्कख देखो वक्कळ = वृल (चंड; उप ८८५) ।

वक्कख देखो वक्कळ = वक्कस् (संज्ञि १५; प्राक्क २२; नाट—मुच्छ १३३) ।

°वक्कख देखो पक्कख (गा ४४२; से ३, ४२; ४, २३; स ६५१) ।

वक्कखमाण देखो वय = व् ।

वक्कखल वि [दे] आच्छादित, ढका हुआ (पड्) ।

वक्कखा सक [व्या + ख्या] ? विवरण करना । २ कहना । क्क, वक्कखेय (विसे १३७०) ।

वक्कखा स्त्री [व्याख्या] विवरण, विशद रूप से अर्थ प्रकल्पण (विसे ६६४) ।

वक्कखाण न [व्याख्याण] ? ऊपर देखो (चिइय २७१; विसे ६६५) । २ कथन (हे २, ६०) ।

वक्कखाण सक [व्याख्याणय्] ? विवरण करना । २ कहना । वक्कखाणइ (भवि) ।

भवि, वक्कखाणइस्सं (शौ) (पि २७६) ।

कम्म, वक्कखाणजइ (विसे ६८४) । वक्क, वक्कखाणयंत (उवर ६८; रण २१) ।

संक्क, वक्कखाणें (विसे ११) । क्क, वक्कखाणे-अव्य (राज) ।

वक्कखाणि वि [व्याख्याणित्] व्याख्यान-कर्त्ता (वमंसं १२६१) ।

वक्कखाणिय वि [व्याख्याणित्] व्याख्यात (विसे १०८७) ।

वक्कखाणीअ (अप) ऊपर देखो (पिग ५०६) ।

वक्कखाय वि [व्याख्यात] ? विवृत, वर्णित (स १३२; चिइय ७७१) । २ पुं, मोक्ष, मुक्ति (आचा १, ५, ६, ८) ।

वक्कखार पुं [दे] बखार, अन्न आदि रखने का मकान, गोदाम (उप १०३१ टी) ।

वक्कखार पुं [वक्षार, वक्षस्कार] ? पवंत-विशेष, गज-दन्त के आकार का पवंत (सम १०१; इक) । २ भू-भाग, भू-प्रदेश (पउम २, ५४; ५५; ५६; ५८) ।

वक्कखारय न [दे] ? रति-गृह । २ अन्तःपुर (दे ७, ४५) ।

वक्कखाय सक [व्या + ख्यापय्] व्याख्यान करना । वक्कखावइ (प्राक्क ६१) ।

वक्कखत्त वि [व्याक्षित्] ? व्यग्र, व्याकुल (औष १३; कुप्र २७) । २ किसी कार्य में व्यापृत (पव २) ।

वक्कखेय देखो वक्कखा = व्या + ख्या ।

वक्कखेय पुं [व्याक्षेप] ? व्यग्रता, व्याकुलता (उवा; उप १३६ टी; १४०) । २ कार्य-वाहुल्य (सुव ३, १) ।

वक्कखेय पुं [अवक्षेप] प्रतिषेध, खारडन (गा २४२ अ) ।

वक्कखो° देखो वक्कळ = वक्कस् । °रुइ पुं [°रुइ] स्तन, धन (सुपा ३८६) ।

वक्कनु (शौ) देखो वंक्क = वक्क (प्राक्क ६७) ।

वक्कग (अप) देखो वक्कखाण = व्याख्याणय् । वक्कण (पिग) ।

वक्कखाणिअ (अप) देखो वक्कखाणिय (पिग) ।

वगडा स्त्री [दे] वाड़, परिलेप (कस; वव ६) ।

वग सक [वल्ग] ? जाना, गति करना । २ कूटना । ३ बहु-भाषण करना । ४ अभिमान-सूचक शब्द करना, खूँ खारना ।

वगइ (भवि; सण; पि २६६), वगंति (सुपा २८८) । कम्म, वगिगंति (शौ) (किरात १७) । वक्क, वगंति (स ३८३; सुपा ४६३; भवि) । संक्क, वगिगत्ता (पि २६६) ।

वर्ग पुं [वर्ग] १ सजातीय समूह (एंडि; सुर ३, ४; कुमा) । २ गणित-विशेष, दो समान संख्या का परस्पर गुणन (ठा १०—पत्र ४६६) । ३ ग्रन्थ-परिच्छेद, ग्रन्थयन, सर्ग (हे १, १७७; २, ७६) । मूल न [मूल] गणित-विशेष, वह अंक जिसका वर्ग किया गया हो, जैसे ४ का वर्ग करने से १६ होता है, १६ का वर्गमूल ४ होता है (जीवस १५७) । वर्ग पुं [वर्ग] गणित-विशेष, वर्ग से वर्ग का गुणन, जैसे २ का वर्ग ४, ४ का वर्ग १६, यह २ का वर्गवर्ग कहलाता है (ठा १०) ।

वर्ग सक [वर्ग्य] वर्ग करना, किसी अंक को समान अंक से गुणना । वर्गसु (कम्म ४, ८४) ।

वर्ग वि [व्यग्र] व्याकुल (उत्त १५, ४; ख्यए ८०) ।

वर्ग देखो वक्क = वक्क (विसे १५४) ।

वर्ग देखो वक्क = वाक्य, 'मुद्धा भणंति ग्रहलं बहु वर्गजालं' (रंभा) ।

वर्ग वि [वालक] वृक्ष-त्वचा—झाल का बना हुआ (णाय १, १ टी—पत्र ४३) ।

वर्गसिअ न [दे] युद्ध, लड़ाई (दे ७, ४६) ।

वर्गचूलिआ व्री [वर्गचूलिका] एक प्राचीन जैन ग्रन्थ (एंडि २०२) ।

वर्गगण न [वल्लान] कूदना (श्रीप; कुप्र १०७; कप्प; णाय १, १—पत्र १६; प्राप) ।

वर्गगण न [वल्लान] वक्कवाद (रंभा) ।

वर्गगणा व्री [वर्गणा] सजातीय समूह (ठा १—पत्र २७) ।

वर्गगय न [दे] वार्ता, बात (दे ७, ३८) ।

वर्गगा व्री [वल्लगा] लगाम (उप ७६८ टी) ।

वर्गावर्गिअ श्र. वर्ग रूप से (श्रीप) ।

वर्गि वि [वर्गिन्] १ प्रशस्त वाक्य बोलनेवाला । २ पुं. बृहस्पति (प्राप्र; पि २७७) ।

वर्गिअ वि [वर्गित] वर्ग किया हुआ (कम्म ४, ८०) ।

वर्गिअ न [वर्गित] १ बहु भाषण, वक्कवाद (सम्मत्त २२७) । २ बड़ाई की आवाज (मोह ८७) । ३ गति, चाल (खण) ।

वर्गिअ वि [वर्गित] १ खूंखार आवाज करनेवाला । २ गति-विशेषवाला (सुर ११, १७१) ।

वर्गु देखो वाया = वाच; 'वर्गुहि' (श्रीप; कप्प; सम ५०; कुम्मा १६) ।

वर्गु देखो वर्ग = वर्ग; 'वर्गुहि' (श्रीप) ।

वर्गु वि [वर्गु] १ सुन्दर, शोभन (सूअ १, ४, २, ४) । २ कल, मधुर (पाअ) । ३ पुं. विजय-क्षेत्र-विशेष, प्रान्त-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) । ४ पुं. एक देव-विमान, वैश्रमण लोकपाल का विमान (देवेन्द्र १३१; २७०) ।

वर्गुरा न [वागुरा] १ मृग-वन्धन, पशु फँसाने का जाल, फन्दा (परह १, १, विपा १, २—पत्र ३५) । २ समूह, समुदाय; 'मणुस्सवगुरापरिक्खित्ते' (उवा, प्राप) ।

वर्गुरिय वि [वागुरिक] १ मृग-जाल से जीविका निर्वाह करनेवाला, व्याध, पारवि (श्रीप ७६६) । २ पुं. नर्तक-विशेष (राज) ।

वर्गुलि पुं व्री [वर्गुलि] १ पक्षि-विशेष (परह १, १—पत्र ८) । २ रोग-विशेष (श्रीपभा २७७, धावक ६१ टी) ।

वर्गोज्ज वि [दे] प्रचुर, प्रभूत (दे ७, ३८) ।

वर्गोअ पुं [दे] नकुल, न्यौला (दे ७, ४०) ।

वर्गोरमय वि [दे] हल, लूला (दे ७, ५२) ।

वर्गोल सक [रोमन्थय] पपुराना, चवी हुई वस्तु का पुनः चवाना; गुजराती में 'वागोळु' । वर्गोलइ (हे ४, ४३) ।

वर्गोलिअ वि [रोमन्थयित्] पपुरानेवाला (कुमा) ।

वर्गवि [वैयात्र] व्यात्र-चर्म का बना हुआ (आचा २, ५, १, ५) ।

वर्गपुं [व्यात्र] १ वाघ, शेर (पाअ; स्वप्न ७०; सुपा ४६३) । २ रक्त एरण्ड का पेड़ । ३ कर्ज वृक्ष (हे २, ६०) । मुह पुं [मुख] १ एक अन्तर्दीप । २ उसमें रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४, २—पत्र २२६; इक) ।

वर्गपाअ पुं [दे] १ साहाय्य, मदद । २ वि. विकसित, खिला हुआ (दे ७, ८६) ।

वर्गपाडी व्री [दे] उाहास के लिये की जाती एक प्रकार की आवाज; 'अप्पेगइया वर्गपाडीओ करेत्ति' (णाय १, ८—पत्र १४४) ।

वर्गपाअ वि [व्यापारित] १ वधारा हुआ, छौंका हुआ (नाट—मृच्छ २२१) । २ व्यास; 'सोतोदयवियडवर्गपायिण्णा' (सम ३६) । ३ पियला हुआ (दश० वै० वृ० चू० अ० ३ नि० गा० १६७) ।

वर्गपाअ वि [दे] प्रलम्बित; 'पडिवद्धसरोर-वर्गपायिसोणिसुत्तगमल्लदामकलावे' (सूअ २, २, ५५); 'वर्गपायिण्णा' (णाय १, ८—पत्र १५४; कप्प; श्रीप; महा) ।

वर्गपावच्च न [व्यात्रापत्य] एक गोत्र, जो वाशिष्ठ गोत्र की एक शाखा है (ठा ७—पत्र ३६०; सुज १०, १६; कप्प; इक) ।

वर्गपी व्री [व्यापी] १ वाघ की मादा (कुमा) । २ एक विद्या (विसे २४५४) ।

वर्गपाय देखो वाघाय; 'आउस्स कालाइचरं वघाए, लद्धाणुमाणे य परस्स अट्टे' (सूअ १, १३, २०) ।

वर्गपा व्री [वचा] १ पृथिवी, धरती (से २, ११) । २ श्रौचवि-विशेष, वच (मृच्छ १७०) । देखो वया = वचा ।

वर्गपा सक [व्रज्] जाना, गमन करना । वचइ (हे ४, २२५; महा) । भवि. वचि-हित्ति (महा) । वद्ध. वचंत, वचमाण (सुर २, ७२; महा; गा १६) ।

वर्गपा सक [काङ्क्ष] चाहना, अभिलाष करना । वचइ, वचउ (हे ४, १६२; कुमा) ।

वर्गपा देखो वय = वच् ।

वर्गपा पुं [वर्चस्] १ पुरीष, विष्ठा (पाअ; श्रीप १६७; सुपा १७६; तंदु १४) । २ कूड़ा-करकट; 'भोगो तंनोलाइ कुणंतो जिण-गिहे कुणइ वच्चं' (संकोष ४) । ३ चौथा नरक का चौथा नरकेन्द्रक—नरकस्यान-विशेष (देवेन्द्र १०) । ४ तेज, प्रभाव (णाय १, १—पत्र ६) । ५ 'वर, हर न [गृह] पाखाना, ट्टी (सूअ १, ४, २, १३; स ७४१) ।

वर्गपा देखो वय = वचस् (णाय १, १—पत्र ६) ।

वञंसि वि [वचस्विन्] प्रशस्त वचनवाला  
(गाथा १, १—पत्र ६)।

वञंसि वि [वचस्विन्] तेजस्वी (गाथा  
१, १; सम १५२; औप; पि ७४)।

वञय पुं [व्यत्यय] विपर्यास, उलट-पुलट  
(उपमृ २६६; पत्र १०४)। देखो वत्तअ।

वञरा (अप) देखो वचा (भवि)।

वञ्च। देखो वय = वच्।

वञ्चामेलिय देखो विञ्चामेलिय (विसे  
१४८१)।

वञ्चास पुं [व्यत्यास] विपर्यास, विपर्यय  
(औप २७१; कम्म ५, ८६)।

वञ्चासिय वि [व्यत्यासित] उलटा किया  
हुआ (विसे ८५३)।

वञ्चीसग पुं [वञ्चीसक] वाद्य-विशेष (अनु)।

वञ्चो° देखो वञ्च = वचस् (सुर ६, २८)।

वञ्च न [दे] पार्श्व, समीप (दे ७, ३०)।

वञ्च पुंन [वक्षस्] छाती, सीना (हे २

१७; संक्षि १५; प्राप्र; गा १५१; कुमा)।  
°त्यल न [°स्थल] उरः-स्थल; छाती (कुमा,  
महा)। °सुत्त न [°सूत्र] आनूपण-विशेष,  
वक्षःस्थल में पहनने की सँकली—सिकड़ी या  
सिकरी (भग ६, ३३ टी—पत्र ४७७)।

वञ्च पुं [वृक्ष] पेड़, शाकी, दुम (प्राप्र; कुमा;  
हे २, १७; पात्र)।

वञ्च पुं [वत्स] १ बछड़ा (सुर २, ६५;

पात्र)। २ शिशु, बच्चा। ३ वत्सर-

वर्ष। ४ वक्षःस्थल, छाती (प्राप्र)। ५

ज्योतिषशास्त्र-प्रसिद्ध एक चक्र (गण १६)।

६ देश-विशेष (ती १०)। ७ विजय-क्षेत्र-

विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०)। ८ न. गोत्र-

विशेष। ९ वि. उक्त गोत्र में उत्पन्न (ठा

७—पत्र ३६०; कप्प)। °दर पुंन [°तर]

धुंन वत्त। २ दमनीय बछड़ा आदि। बी. °री

(प्राक्र २३)। °मिच्चा बी [°मित्रा] १

अबोलोक में रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी

(ठा ८—पत्र ४३७; इक)। २ ऊर्बलोक

में रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (इक;

राज)। °यर देखो °दर (दे. २, ६; ७,

३७)। °राय पुं [°राज] एक राजा (ती

१०)। °वाल पुंन [°पाल] गोप, ग्वाला

(पात्र)। बी. °ली (आवम)।

वञ्च वि [वात्स्य] वात्स्य गोत्र का (गंदि  
४८)।

वञ्चगावई बी [वत्सकावती] एक विजय-  
क्षेत्र (ठा २, ३—पत्र ८०; इक)।

वञ्चर पुंन [वत्सर] साल, वर्ष (प्राप्र; सिरि  
६३५)।

वञ्चल वि [वत्सल] स्नेही, स्नेह-युक्त (गा  
३; कुमा; सुर ६, १३७)।

वञ्चल्ल न [वात्सल्य] स्नेह, अनुराग, प्रेम  
(कुमा; पडि)।

वञ्चला बी [वत्सा] १ विजय-क्षेत्र विशेष।  
२ एक नगरी (इक)। ३ लड़की (कप्प)।

वञ्चलाण पुं [उक्षन्] बैल, बलीवदं; 'उक्त्वा  
वसहा य वञ्चलाणा' (पात्र)।

वञ्चलावई बी [वत्सावती] विजय-क्षेत्र विशेष  
(जं ४)।

वञ्चि° देखो वय = वच्।

वञ्चिउड पुं [दे] गर्नाश्रय (दे ७, ४४ टी)।

वञ्चिम पुंन [वृक्षत्व] वृक्षपत्र (पड्)।

वञ्चिमय पुं [दे] गर्नं शय्या (दे ७, ४४)।

वञ्चीउत्त पुं [दे] नापित, हजाम (दे ७,  
४७; पात्र; स ७५)।

वञ्चीव पुं [दे] गोप, ग्वाला (दे ७, ४१;  
पात्र)।

वञ्चुद्धलिअ वि [दे] प्रलुद्धत (पड्)।

वञ्चोम न [वक्षोम] नगर-विशेष, कुन्तल

देश की प्राचीन राजधानी (कप्प)।

वञ्चोमी बी [दे] काव्य की एक रीति

(कप्प)।

वञ्ज अक [त्रस्] डरना। वज्जइ, वज्जए

(हे ४, १६८; प्राक्र ७५; घात्वा १५१)।

वञ्ज देखो वञ्च = वच्। वज्जइ (नाट—मृच्छ

१६३), वज्जसि (पि ४८८)।

वञ्ज सक [वर्जय्] त्याग करना। क्वक.

वज्जिजंत (पंचा १०, २७)। संक्र. वज्जिय,

वज्जोवि, वज्जिऊण, वज्जोत्ता (महा; काल;

पंचा १२, ६)। क. वज्ज, वज्जणिज्ज,

वज्जोयव्व (पिड ५६२; भग; परह २, ४;

सुपा ४८५; महा; परह १, ४; सुपा ११०;

उप १०३७)।

वञ्ज अक [वद्] वजना, वाद्य आदि की

आवाज होना। वज्जइ (हे ४, ४०६; सुपां

३३४)। वञ्ज. वज्जंत, वज्जमाण (सुर ३,  
११५; सुपा ६५६)।

वज्ज न [वाद्य] वाजा, वादित्त (दे ३, ५८;  
गा ४२०)।

वज्ज वि [वर्ज] १ श्रेष्ठ, उत्तम (सुर १०,  
२)। २ प्रधान, मुख्य (हे २, २४)।

वज्ज वि [वर्ज] १ रहित, वजित्त; 'जिएवज्ज-

देवयाणं न नमइ जो तस्स उणुमुदी' (आ  
६), 'सहजनिओगजवज्जा पायं न घडंति

आगारो' (चिद्व ४७१), 'लोयववहारवज्जा

तुब्भे परमत्वमूढा य' (धर्मादि ८४५; विसे  
२८४०; आवक ३०७; सुर १४, ७८)।

२ न. छोड़कर, बिना, सिवाय (आ ६; दं  
१७; कम्म ४, ३४; ५३)। ३ पुं. हिंसा,

प्राणि-वध (परह १, १—पत्र ६)।

वज्ज देखो अवज्ज (सुम १, ४, २, १६;  
वह १)।

वज्ज देखो वज्ज = वज्ज (कुमा; सुर ४, १५२;  
गु ५; हे १, १७७; २, १०५; यड्; कम्म

१, ३६; जीवस; ४६; सम २५)। १७ पुं.  
विद्यावर-वंश का एक राजा (पउम ५, १६;

१७; ८, १३३)। १८ हिंसा, प्राणि-वध  
(परह १, १—पत्र ६)। १९ कन्द-विशेष

(परण १—पत्र ३६; उत्त, ३६, ६६)।

२० न. कर्म-विशेष, वैवाता हुआ कर्म (सुत्र  
२, २, ६५; ठा ४, १—पत्र १६७)। २१

पाप (सुत्र १, ४, २, १६)। °कंठ पुं  
[°कण्ठ] वानर-द्वीप का एक राजा (पउम

६, ६०)। °कंत न [°कान्त] एक देव-  
विमान (सम २५)। °कंद पुं [°कन्द] एक

प्रकार का कन्द, वनस्पति-विशेष (आ २०)।

°कूड न [°कूट] एक देव-विमान (सम २५)।

°क्ख पुं [°क्ष] एक विद्यावर-वंशीय राजा  
(पउम ८, १३२)। °चूड पुं [°चूड]

विद्यावर-वंश का एक राजा (पउम ५, ४६)।

°जंघ पुं [°जङ्घ] विद्यावर-वंशीय एक  
नरेश (पउम ५, १५)। °णाभ पुं [°नाभ]

भगवान् अभिनन्दन-त्वामी के प्रथम गणधर  
(सम १५२)। देखो °नाभ। °दत्त पुं  
[°दत्त] १ विद्यावर-वंश का एक राजा  
(पउम ५, १५)। २ एक जैन मुनि (पउम  
२०, १८)। °द्वय पुं [°व्यज] एक विद्यावर-

वंशीय राजा (पउम ५, १५) । °घर देखो °हर (पउम १०२, १५६; विचार १००) । °नागरी स्त्री [°नागरी] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) । °नाभ पुं [°नाभ] एक जैन मुनि (पउम २०, १६) । देखो °णाभ । °पाणि पुं [°पाणि] १ इन्द्र (उत्त ११, २३; देवेन्द्र २८३; उप २११ टी) । २ एक विद्याधर-नरपति (पउम ५, १७) । °पभ न [°प्रभ] एक देव-विमान (सम २५) । °वाहु पुं [°वाहु] एक विद्याधर-वंशीय राजा (पउम ५, १६) । °भूमि स्त्री [°भूमि] लाट देश का एक प्रदेश (आचा १, ६, ३, २) । °म (अप) देखो मय (हे ४, ३६५) । °मज्झ पुं [°मध्य] १ राक्षस-वंश का एक राजा, एक लंकेश (पउम ५, २६३) । २ रावणाधीन एक सामन्त राजा (पउम ८, १३२) । °मज्झा स्त्री [°मध्या] एक प्रतिमा, व्रत-विशेष (श्रौप २४) । °मय वि [°मय] वज्र का वना हुआ (पउम ६२, १०) । स्त्री. °मई (नाट—उत्तर ४५) । °रिसहनाराय न [°रुच्यभनाराच] संहनन-विशेष, शरीर का एक तरह का सर्वोत्तम वस्त्र (कम्म १, ३८) । °रुव न [°रूप] एक देव-विमान (सम २५) । °लेस न [°लेस्य] एक देव-विमान (सम २५) । °वँ (अप) देखो °म (हे ४, ३६५) । °वण्ण न [°वर्ण] एक देव-विमान (सम २५) । °वेग पुं [°वेग] एक विद्याधर का नाम (महा) । °सिखला स्त्री [°शृङ्खला] एक विद्या-देवी (संति ५) । °सिग न [°शृङ्ग] एक देव-विमान (सम २५) । °सिट्ट न [°सुट्ट] एक देव-विमान (सम २५) । °सुंदर पुं [°सुन्दर] विद्याधर-वंश में उत्पन्न एक राजा (पउम ५, १७) । °सुजणहु पुं [°सुजह्नु] विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, १७) । °सेण पुं [°सेन] १ एक जैन मुनि, जो भगवान् ऋषभदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे (पउम २०, १७) । २ विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के एक जैन आचार्य (सिरि १३४६) । °हर पुं [°धर] १ इन्द्र, देवराज (सि १५, ४८; उव) । २ वि. वज्र को धारण करने-वाला (सुपा ३३४) । °उह पुं [°अयुध] १ इन्द्र (पउम ३, १३७; ५१, १८) । २

विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, १६) । °भ पुं [°भ] एक विद्याधर-वंशीय राजा (पउम ५, १६) । °वत्त न [°वत्त] एक देव-विमान (सम २५) । °स पुं [°श] एक विद्याधर-राजा (पउम ५, १७) ।

वर्जक पुं [वज्राङ्क] विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, १६) ।

वर्जकुसी स्त्री [वज्राङ्कुसी] एक विद्या-देवी (संति ५) ।

वर्जत देखो वर्ज = वद् ।

वर्जन्धर पुं [वज्रन्धर] विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, १६) ।

वर्जघट्टिता स्त्री [दे] मन्द-भाग्य स्त्री (संति ४७) ।

वर्जण न [वर्जन] परित्याग, परिहार (सुर ४, ८२; स २७१; सुपा २४५; धु ६) ।

वर्जणअ (अप) वि [वदितृ] वजनेवाला, 'पडहु वज्जराउ' (हे ४, ४४३) ।

वर्जणया स्त्री [वर्जना] परित्याग (सम वर्जणा } ४४; उत्त १६, ३०; उव) ।

वर्जमाण देखो वर्ज = वद् ।

वर्जय वि [वर्जक] त्यागनेवाला (उवा) ।

वर्जर सक [कथय्] कहना, बोलना ।

वर्जरेइ, वर्जरेइ (हे ४, २; पड्; महा) ।

वक्क-वर्जरंत (हे ४, २, चैइय १४६) ।

संक्क-वर्जरिऊण (हे ४, २) । क्क-वर्जरि-अव्य (हे ४, २) ।

वर्जर देखो वर्जर = मार्जर (वंड) ।

वर्जर पुं [वर्जर] १ देश-विशेष । २ वि.

देश-विशेष में उत्पन्न; 'परिवाहिया य तेणं वहवे वल्हीयतुक्कवज्जराइया आसा' (स १३) ।

वर्जरण न [कथन] उक्ति, वचन (हे ४, २) ।

वर्जरा स्त्री [दे] तरंगिणी, नदी (दे ७, ३७) ।

वर्जरिअ वि [कथित] कहा-हुआ, उक्त (हे

४, २; सुर १, ३२; भवि) ।

वर्जा स्त्री [दे] अधिकार, प्रस्ताव (दे ७,

३२; वर्जा २) ।

वर्जाव (अप) सक [वाचय्] वचवाना,

पढ़ाना । वर्जावइ (प्राक् १२०) ।

वर्जाव सक [वाद्य्] वजाना । वर्जावइ

(भवि) ।

वर्जाविय वि [वादित] वजाया हुआ (भवि) ।

वर्जि पुं [वज्जिन] इन्द्र (संवेव ८) ।

वर्जिअ वि [दे] श्रवलोक्ति, दृष्ट (दे ७,

३६; महा) ।

वर्जिअ वि [वादित] वजाया हुआ (सिरि

५२५) ।

वर्जिअ वि [वजित] रहित (उवा; श्रौप;

महा; प्रासू ७६) ।

वर्जियाव पुं [दे] शेलडी (व्यव० भाष्य०) ।

वर्जियावग पुं [दे] इक्षु, ऊख (वव १) ।

वर्जिर वि [वदितृ] वजनेवाला (सुर ११,

१७२; सुपा ४५; ८७; सिरि १५५; सण),

'गहिल्ल (२व) जिराउज्जगज्जिज्जरियवभंडभंडो-

यरो' (कुप्र २२४) ।

वर्जुत्तरवडिसग न [वज्जोत्तरावतंसक] एक

देव-विमान (सम २५) ।

वर्जोयरी स्त्री [वज्जोदरी] विद्या-विशेष

(पउम ७, १३८) ।

वर्ज्ज वि [वध्य] वध के योग्य (सुपा २४८;

गा २६; ४६६; दे ८, ४६) । °नेवस्थिय

वि [°नेपथियक] मृत्यु-दंड-प्राप्त को पहनाया

जाता वेप वाला (पणह १, ३—पत्र ५४) ।

°माला स्त्री [°माला] वध्य को पहनाई

जाती माला, कनेर के फूलों की माला (भत्त

१२०) ।

वर्ज्ज वि [वाह्य] १ वहन करने योग्य (प्राप्र;

उप १५० टी) । २ न. अरब आदि यान (स

६०३) । °खेडु न [°खेल] कला-विशेष,

यान की सवारी का इत्तम (स ६०३) ।

वर्ज्जा स्त्री [हत्या] वध, घात (सुख ४, ६;

महा) ।

वर्ज्जियायण न [वध्यायन] गोत्र-विशेष

(सुज १०, १६) ।

वज्ज (अप) देखो वज्ज = वज्ज । वज्जइ, वज्जि

(पड्) ।

वट्ट सक [वृत्त्] १ वर्तना, होना । २ आच-

रण करना । वट्टइ, वट्टए, वट्टति (सुर ३,

३६; उव; कप्प) । वट्ट-वट्टंत, वट्टमाण (गा

४१०; कम्म ३, २०; चैइय ७१३; भवि;

उवा; पडि; कप्प; पि ३५०) । हेक्क-वट्टेइ

(चैइय ३६८) । क्क-वट्टियव्व (उव) ।

वट्ट सक्र [वर्तय] १ वरतना । २ पिड  
हप से वाचना । ३ परोसना । ४ ढकना,  
आच्छादन करना । वट्टंति (पिड २३६) ।  
कवक. वट्टिजमाण (श्रीप) ।

वट्ट वि [वृत्त] १ वतुल, गोलाकार (सम  
३३; श्रीप; उवा) । २ अतीत, गुजरा हुआ ।  
३ मृत । ४ संजात. उत्पन्न । ५ अवीत ।  
६ दृढ़ । ७ पुं. कूर्म, कछुआ (हे २, २६) ।  
८ न. वर्तन, वृत्ति, प्रवृत्ति (सुप्र १, ४,  
२, २) । कन्तुर. खुर पुं [खुर] श्रेष्ठ  
अरव (श्रीप ४३८; राज) । खेड, खेडु खीन  
[खेल] कला-विशेष (राया १, १—पत्र  
३८; स ६०३; अंत ३१ टि). देवो वरथ-  
खेडु । देवो वत्त, वित्त = वृत्त । वैयड्ड  
पुं [वैताल्य] पवंत-विशेष (ठा १०) ।

वट्ट पुं [वर्तमन्] वाट, मार्ग, रास्ता; 'पडि-  
सोएण पवट्टा चत्ता अणुसोअगामियो वट्टा'  
(साध ११८; नुर १०, ४; सुपा ३३०), 'वट्ट'  
(प्राकृ २०) । वाडण न [पातन] मुसा-  
फिरों को रास्ते में लुटना; 'परदोहनट्टवाडण-  
चंदंगहखतखणणपमुहाइ' (कुप्र ११३), 'सो  
वट्टपाडणेहि वंदंगहणेहि खतखणणेहि'  
(वर्मवि १२३) ।

वट्ट पुं [वे] १ प्याला, गुजराती में 'वाटको';  
'पट्टमष्ट'ट्टिमि ललिया जीहा, हत्यात निवडियं  
वट्ट' (सुपा ४६६) । २ पुं. हानि, नुकसान,  
गुजराती में 'वट्टो'; 'अन्नह उन्नखणणवि  
मूला वट्टो इहं होहि' (सुपा ४४५) । ३ लोचक,  
शिला-पुत्रक, लोड़ा; 'वट्टानरण' (भग १६,  
३—पत्र ७६६) । ४ साय-विशेष, गाढ़ी  
कढ़ी (परह २, ५—पत्र १४८) ।

वट्ट पुं [वर्त] देश-विशेष (सत्त ६७ टी) ।  
वट्ट पुं [पट्ट] प्रवाह (कुमा) । देवो पट्ट (से  
५, १४; भवि; गउड) ।

वट्टंत देवो वट्ट = वृत्त ।  
वट्टक } देवो वट्टय = वर्तक (परह १,  
वट्टग } १—पत्र ८; विपा १, ७—पत्र  
७५; सूत्र २, २, १०; २६; ४३) ।

वट्टप देवो वत्तग (रंभा) ।  
वट्टणा देवो वत्तगा (राज) ।  
वट्टनग न [वर्तमन्] मार्ग, रास्ता (प्राचा;  
श्रीप) ।

वट्टमाण देवो वट्ट = वृत्त ।  
वट्टमाण न [दे] १ अंग, शरीर । २ गन्ध-  
द्रव्य का एक तरह का अघिवास (दे ७,  
८६) ।

वट्टय देवो वट्ट = दे (पउम १०२, १२०) ।  
वट्टय पुं [वर्तक] १ पत्ति-विशेष, बटेर (सुप्र  
१, २, १०; उवा) । २ बालकों को खेलने  
का एक तरह का चपड़े का बना हुआ गोल  
खिलौना (सुमु ५; राया १, १८—पत्र  
२३५) ।

वट्टय देवो पट्ट (गउड) ।  
वट्टा खी [दे. वर्तमन्] देवो वट्ट = वर्तमन्  
(दे ७, ३१) ।

वट्टा खी [वार्ता] वात, कथा (कुमा) ।  
वट्टाय सक्र [वर्तय] वरताना, काम में  
लगाना । वट्टावेइ (उव) ।

वट्टावण न [वर्तन] वरताना, कार्य लगाना  
(उव) ।

वट्टावय वि [वर्तक] वरतानेवाला, प्रवर्तक  
(उव; राया १, १४—पत्र १८६) ।

वट्टावय वि [वर्तक] प्रतिजागरक, शुश्रूपाकर्ता  
(वव १) ।

वट्टि खी [वर्ति] १ वत्ती, दीपक में जलनेवाली  
वाती । २ सलाई, आँख में सुरमा लगाने की  
सली या सलाई । ३ शरीर पर किया जाता एक  
तरह का लेप । ४ लेख, लिखना । ५ कलम,  
पीछी (हे २, २०) । देवो वत्ति, वित्ति ।

वट्टिअ वि [वर्त्तित] १ परिवर्त्तित (दे ५,  
२७) । २ बलित (पत्र २१६ टी) । ३ वतुल,  
गोल (परह १, ४—पत्र ७८; तंडु २०) ।  
४ प्रवर्त्तित (भवि) ।

वट्टिआ खी [वर्त्तिका] देवो वट्टि (अभि  
२१७; नाट—रत्ना २१; स २३६) ।

वट्टिम वि [दे] अतिरिक्त (दे ७, ३४) ।

वट्टिय वि [दे] चूर्ण किया हुआ, पिसा हुआ;  
गुजराती में 'वाटेलु'; 'पत्तिवत्तं साहिएणवट्टियं  
लोणं' (स २६४) ।

वट्टिय न [दे] पर-कार्य (दे ७, ४०) ।

वट्टी खी [वर्त्ती] देवो वट्टि (हे २, ३०) ।

वट्टी खी [पट्टी] पट्टा; 'ताव य कडिवट्टीओ  
पडिया खणणवसी ऋत्ति' (सुपा ३४४;  
१५४) ।

वट्टु न [दे] पात्र-विशेष (वह १) । कर  
पुं [कर] यक्ष-विशेष (राज) । करी खी  
[करी] विद्या-विशेष (राज) ।

वट्टुल वि [वतुल] १ गोल, बुत्ताकार  
(पाम्र) । २ पुं. पलाण्डु—प्याज के समान  
एक तरह का कन्द-मूल (हे २, ३०; प्राह) ।

वट्टु देवो पट्ट = पृष्ठ (गउड; गा १५०; हे  
१, ८४; १२६) ।

वट्टि देवो सट्टि; 'वा-वट्टी' (सम ७५; पंच  
५, १८; वि २६५; ४४६) ।

वड पुं [दे] १ द्वार का एक देश, दरवाजे का  
एक भाग । २ क्षेत्र (दे ७, ८२) । ३ मत्स्य  
की एक जाति (परण १—पत्र ४७) । ४  
विभाग (निचू २) । देवो वड्डु; 'वडसफर-  
पवहणण' (सिरि ३८२) ।

वड पुं [वट] १ वृक्ष-विशेष, बरगद, बड़का  
पेड़ (परण १—पत्र ३१; गा ६४; कप्पू) । २  
न. वक्र-विशेष; 'वडजुगपट्टजुगाइ' (राया १,  
१ टी—पत्र ४३) । नयर न [नगर]  
नगर-विशेष (पउम १०५, ८८) । वड न  
[पट्ट] १ गुजरात का एक नगर, जो आज  
कल 'वडौदा' नाम से प्रसिद्ध है (उप ५१६) ।  
२ एक गोकुल (उप ५६७ टी) । सावित्री  
खी [सावित्री] एक देवी (कप्पू) ।

वड देवो पड = पत् । वक. 'उग्रहिम्मि उण  
वडंता' (से ७, ७) ।

वड देवो पड = पट; 'पवणाहयवडचंचलाओ  
लच्छीओ तह य मणुयाण' (सुर ४, ७६; से  
१०, १६; सुर १, ६१; ३, ६७; गा  
३२६) ।

वडग न [वटक] खाद्य-विशेष, वड़ा (पिड  
६३७) ।

वडग देवो वड = वट (अंत) ।

वडण देवो पडण (गा ५६७; गउड; महा) ।  
वडपप न [दे] १ लता-गहन । २ निरन्तर  
वृष्टि (दे ७, ८४) ।

वडभ वि [वडभ] १ वामन, ह्रस्व (श्रीपमा  
८२) । २ जितका पृष्ठ-भाग बाहर निकल  
झाया हो वह (प्राचा) । ३ नामि के ऊपर  
का भाग जिसका टेढ़ा हो वह (परह १,  
१—पत्र २३) । ४ पीछे का या आगे का

अंग जिसका बाहर निकल आया हो वह (पव ११०)। ५ जिसका पेट बड़ा होकर आगे निकल आया हो वह। स्त्री. °भी (गाया १, १—पत्र ३७; ग्रीप; पि ३८७)।

वडय देखो वडग = वटक (सुपा ४८५)।

°वडल देखो पडल (गजड)।

वडवगिग पुं [वडवाग्नि] वडवानल, समुद्र के भीतर की आग (गा ४०३)।

वडवड अक [वि + लप्] विलाप करना। वडवडइ (हे ४, १४८), वडवडंति (कुमा)।

वडवा स्त्री [वडवा] घोड़ी (पात्र; धर्मवि १४५)। °वल, नल पुं [°नल] समुद्र के भीतर की आग, वडवाग्नि (पि २४०; आ १६)। °मुह न [°मुख] १ वही अर्थ (सि १, ८)। २ एक महा-पाताल (इक)। °हुआस पुं [°हुतारा] वडवानल (समु १५४)।

वडह देखो वडभ (आचा १, २, ३, २)।

वडह पुं [दे] वक्ति-विशेष (दे ७, ३३)।

°वडह देखो पडह (सि १२, ४७)।

वडही देखो वलही (गजड)।

°वडाआ देखो पडाया (गा १२०)।

°वडालि स्त्री [दे] वक्ति, श्रेणि (दे ७, ३६)।

°वडाहा देखो पडाया; धवलधयवडाहों (महा)।

°वडिअ देखो पडिअ (सि ५, १०; कुप्र १८१; उवा)।

वडिअ वि [गृहीत] ग्रहण किया हुआ (सुर १, १६६)।

वडिस पुं [वतंस] १ मेरु पर्वत (सुज ५ टी—पत्र ७८)। २ भूपण, 'रायकुलवडिसगा वि मुणिवसभा' (उत्र, कप्प)। ३ एक दिग्दक्षि-कूट (इक)। ४ प्रवान, मुख्य। ५ श्रेष्ठ, उत्तम (कप्प; महा)। ६ कणपूर, कान का आभूषण (गाया १, १—पत्र ३१)। देखो वडेंस, अवयंस।

वडिगाय पुं [दे] धरंर कण्ठ, बैठा हुआ गला (पड्)।

वडिया स्त्री [वृत्तिता] वर्त्तन, 'भयवंतदंसण-वडियाए' (सि ६८३; आचा २, ७, १)।

°वडिया देखो पडिया = प्रतिज्ञा (आचा २, ७, १)।

वडिसर न [दे] चल्ली-मूल, चल्हे का मूल (दे ७, ४८)।

वडिवस्सअ वि [वरिवस्यक] पूजक, पूजा करनेवाला (चाह १)।

वडिसाअ वि [दे] लुत्, टपका हुआ (पड्)। वडी स्त्री [दे] वडी, एक प्रकार का लाय (पव ३८)।

वडुमग } देखो वट्टमग (ग्रीप; आचा)।  
वडूमग }

वडेंस पुं [वतंस] शेखर, मुकुट (भग; गाया १, १ टी—पत्र ५)। देखो वडेंस।

वडेंसा स्त्री [वतंसा] किन्नर नामक किन्नरेंद्र की एक अग्रमहिषी (ठा ४, १—पत्र २०४; गाया २—पत्र २५२)।

वडेंसिया स्त्री [वतंसिका] अवतंस की तरह-करना; मुकुटस्थानापन्न करना; 'अट्टारसवं-जणाउल्लं भोयणं भोयावेत्ता जावजीवं पिट्टिव-डेंसियाए परिवहेत्वा' (ठा ३, १—पत्र ११७)।

वडु वि [दे] वडा, महान (दे ७, २६; तंडु ५५; सुपा १२४; गाया २—पत्र २४८; सम्मत १७३; भवि; हे ४, ३६६; ३६७; ३७१)। °अत्तरग पुं [°आत्तरक] ऊँट की पीठ पर रखा जाता आसन (पव ८४ टी)। °त्तण न [°त्व] वडप्पन, महत्ता (हे ४, ३८४; कप्प)। °त्पण (अप) न [°त्व] वही (हे ४, ३६६; ४३७; पि ३००)। °यर वि [°तर] विशेष वडा (हे २, १७४)।

वडुवास पुं [दे] मेघ, अन्न (दे ७, ४७; कुमा)।

वडुहुडि पुं [दे] मालाकार, माली (दे ७, ४२)।

वडुार (अप) देखो वडु-यर (भवि)।

वडुिम वि [दे] लुत्, टपका हुआ (पड्)। वडुिल [दे] देखो वडु;

'नयणाण पडव वज्जं अहवा वज्जस्स वडिलं किपि।

अमुणियजणेवि दिट्ठे अणुवंधं जाणिए कुव्वंति'

(सुर ४, २०; वजा ६२)।  
वडुअर देखो वडु-यर (पड्)।

वडुअक [वृध्] वडना। वडुइ (हे ४, २२०; महा; काल)। भूका, वडुइत्या (कप्प)। वक्र, वडुइंत, वडुइमाण (सुर १, ११६; महा; गा ११३)। हेऊ, वाडुइउं (महा)।

वडुअक [वर्धय] १ बढ़ाना, विस्तारना। २ बघाई देना। वडुइंति (उव)। वक्र, वडुअंत (नाट—मृच्छ १८)। कर्म, वडुइजंति (सिरि ४२४)। देखो वडु = वर्धय्।

वडुइ पुं [वर्धकि] बढ़ई, सुतार (सम २७; उप पृ १५३; पात्र; धर्मसं ४८६; दे ७, ४४)।

वडुइअ पुं [दे] चर्मकार, मोची (दे ७, ४४)।

वडुइण न [वर्धन] १ वृद्धि, बढ़ाव (कप्प)। २ वि. वृद्धि-जनक (महा; सुर १३, १३६)।

वडुइणमिर वि [दे] पीन, पुष्ट (दे ७, ५१)।

वडुइणसाल वि [दे] जिसकी पूँछ कट गई हो वह (दे ७, ४६)।

वडुइमाण देखो वडु = वृध्।

वडुइमाण } न [वर्धमान, °क] १  
वडुइमाणय } गुजरात का एक नगर, जो आजकल 'वडवाण' के नाम से प्रसिद्ध है; 'सिरिवडुइमाणयरं पत्ता गुजरवरावलयं' (सम्मत्त ७५)। २ अविज्ञान का एक भेद, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता एक प्रकार का परोक्ष रूपी द्रव्यों का ज्ञान (ठा ६—पत्र ३७०; कम्म १, ८)। ३ पुं, भगवान् महावीर (भवि)। देखो वडुमाण।

वडुइय देखो वट्ट = दे; 'पाणमरियं वडुइयं पियावयणसमपियं पीयमाणं पि तीए सुट्टुयरं भरियमंसुएहिं' (सि ३८२)।

वडुइव सक [वर्धय, वर्धापय] १ बढ़ाना, वृद्धि करना। २ बघाई देना, अशुभ्य का निवेदन करना। वडुइवइ (प्राक् ६०)।

वडुइवअ वि [वर्धक] १ बढ़ानेवाला २ बघाई देनेवाला (प्राक् ६१)।

वडुइवण न [दे] वक्र का आहरण (दे ७, ८७)।

वडुइवण न [दे. वर्धापन] बघाई, अशुभ्य-निवेदन (दे ७, ८७)।



वड्डविअ वि [वर्धित, वर्धापित] जिसको  
बचाई दी गई हो वह (दे ६, ७४) ।  
वड्डार (अप) सक [वर्धय] बढ़ाना,  
गुजराती में 'वचारु' । वड्डारइ (भवि) ।  
वड्डाव देखो वड्डव । वड्डावेमि (प्राकृ  
६१; पि ५५२) ।  
वड्डावअ देखो वड्डवअ (प्राकृ ६१; कप्पू;  
उवा) ।  
वड्डाविअ वि [दि] समापित, समाप्त किया  
हुआ (दे ७, ४५) ।  
वड्डि वि [वर्धिन्] बढ़नेवाला (से १, १) ।  
वड्डि वी [वृद्धि] बढ़ती, बढ़ाव (उवा; देवेन्द्र  
३६७; जीवस २७४) ।  
वड्डिअ वि [वृद्ध] बढ़ा हुआ (कुमा ७,  
५८; गा ४१०; महा) ।  
वड्डिअ वि [वर्धित] १ बढ़ाया हुआ;  
'महिवीडे नड्डिदयनीरो उयहिच्च वित्थरइ'  
(सिदि ६२७) । २ खरिइत्त किया हुआ,  
काटा हुआ (से १, १) ।  
वड्डिआ वी [दे] कूपतुला, डेंकुवा (दे ७,  
३६) ।  
वड्डिम पुं [वृद्धिमन्] वृद्धि, बढ़ाव;  
'पत्ता दिणं वड्डिमा' (प्राकृ ३३; कप्पू) ।  
वड्ड देखो वड्ड = वट (हे २, १७४; पि २०७) ।  
वड्ड वि [दे] मूक, वाक्-शक्ति से रहित  
(संज्ञि ३६) ।  
वड्डर } पुं [वड्डर] १ मूखें छात्र । २  
वड्डल } ब्राह्मण पुरुष और वैश्य वी से  
उत्पन्न संतान, अश्वत्थ । ३ वि. शठ, घृत्तं ।  
४ मन्द, अलस (हे १, २५४; पड्ड) ।  
वण सक [वन्] मार्गना, याचना करना ।  
वणइ (पिड ४४३) ।  
वण पुं [दे] १ अधिकार । २ धपच, चौडाल  
(दे ७, ८२) ।  
वण पुं [व्रण] घाव, प्रहार, क्षत; 'जस्सेअ  
वणो तस्सेअ वेअणा (काप्र ८७१; गा ३८१;  
४२७; पाप्र) । ३ वट्ट पुं [पट्ट] घाव पर  
बांधी जाती पट्टी (गा ४५८) ।  
वण न [वन्] १ अरण्य, जंगल (भग; पाप्र;  
उवा; कुमा; प्रासू ६२; १४५) । २ पानी,  
जल (पाप्र; वजा ८८) । ३ निवास । ४

आलय (हे ३, ८८; प्राप्र) । ५ वनस्पति  
(कम्म ४, १०; १६; ३६; दं १३) । ६  
उद्यान, बगीचा (उप ६८६ टी) । ७ पुं.  
देवों की एक जाति, वानव्यंतर देव (भग;  
कम्म ३, १०) । ८ वृक्ष-विशेष (राय) ।  
कम्म पुं [कम्मन्] जंगल को काटने या  
देवने का काम (भग ८, ५—पत्र ३७०;  
पडि) । कम्मंत न [कम्मन्त] वनस्पति  
का कारखाना (आचा २, २, २, १०) ।  
गय पुं [गज] जंगली हाथी (से ३, ६३) ।  
गि पुं [गिन्] दावानल (पाप्र) । चर  
वि [चर] वन में रहनेवाला, जंगली  
(पह १, १—पत्र १३) । वी. ०री  
(रयण ६०); देखो ०यर । छिंद वि  
[च्छिंद] जंगल काटनेवाला (कुप्र १०४) ।  
थली वी [स्थली] अरण्य-भूमि (से ३,  
६३) । दव पुं [दव] दवानल (गाया १,  
१—पत्र ६५) । पव्वय पुं [पर्वत]  
वनस्पति से व्याप्त पर्वत; 'वणाणि वा  
वणपव्वयाणि वा' (आचा २, ३; ३, २) ।  
विराल पुं [विडाल] जंगली बिल्ला  
(सण) । माल न [माल] एक देव-  
विमान (सम ४१) । माला वी [माला]  
१ पेर तक लटकनेवाली माला (ओप; अचु  
३६) । २ एक राज-पत्नी (पउम ३१, १४) ।  
३ रावण की एक पत्नी (पउम ३६, ३२) ।  
०य वि [ज] वन में उत्पन्न, जंगली (वजा  
१२८) । ०यर वि [चर] १ वन में  
रहनेवाला, वनैला (गाया १, १—पत्र ६२;  
गडड) । २ पुं वी. व्यन्तर देव (विसे ७०७;  
पव १६०) । वी. ०री (उप पृ ३३०) । ०राइ  
वी [राजि] तरु-पंक्ति, वृक्ष-समूह (चंड;  
सुर ३, ४२; अमि ५५) । ०राज, ०राय पुं  
[राज] १ विष्णु की आठवीं शताब्दी का  
गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा (मोह १०८) ।  
२ सिंह, केतरी (चंड) । ०लइया, ०लया वी  
[लता] १ एक वी का नाम (महा) । २  
वह वृक्ष जिसको एक ही शाखा हो (कप्प;  
राय) । ०वाल वि [पाल] उद्यान-पालक,  
माली (उप ६८६ टी) । ०वास पुं [वास]  
अरण्य में रहना (पि ३५१) । ०वासी वी  
[वासी] नगरी-विशेष (राज) । ०विदुग्ग  
न [विदुग्ग] नामाविध वृक्षों का समूह

(सूअ २, २, ८; भग) । ०विरोहि पुं  
[विरोहिन्] आषाढ मास (सुज्ज १०,  
१६) । ०संड पुं [पण्ड] अनेकविध वृक्षों  
की घटा—समूह (ठा २, ४; भग; गाया १,  
२; औप) । ०हत्थि पुं [हत्थिन्] जंगल  
का हाथी (से ८, ३६) । ०लि, ०लि वी  
[लि] वन-पंक्ति (गा ५७६; हे २, १७७) ।  
वणइ वी [दे] वन-राजि, वृक्ष-पंक्ति (दे ७,  
३८; पड्ड) ।  
वणण न [वन्न] बड़ड़े को उसकी माता से  
मिल दूसरी गाय से लगाना (पह १, २—  
पत्र २६) ।  
वणण न [दे. न्यान] बुना । ०साला वी  
[शाला] बुनने का कारखाना (दस १,  
१ टी) ।  
वणद्धि वी [दे] गो-वृन्द, गो-समूह (दे ७,  
३८) ।  
वणनत्तडिअ वि [दे] पुरस्कृत, आगे किया  
हुआ (पड्ड) ।  
वणपक्कसावअ पुं [दे] शरभ, खापद-विशेष  
(दे ७, ५२) ।  
वणप्फइ पुं [वन्स्पति] १ वृक्ष-विशेष, फूल  
के बिना ही जिसमें फल लगता हो वह वृक्ष  
(हे २, ६६; कुमा) । २ लता, पुल्ल, वृक्ष  
आदि कोई भी गाछ, पेड़ मात्र (भग) । ३ न.  
फल (कुमा ३, २६) । ०काइअ वि [कायिक]  
वनस्पति का जीव (भग) ।  
वणय पुं [वन्क] दूसरी नरक-श्रमिकी का एक  
नरक-स्थान (देवेन्द्र ६) ।  
वणरसि (अप) देखो वाणारसी (पिग; पि  
३५४) ।  
वणय पुं [दे] दावानल (दे ७, ३७) ।  
वणसवाई वी [दे] कोकिला, कोयल (दे  
७, ५२; पाप्र) ।  
वणस्सइ देखो वणप्फइ (हे २, ६६; जी २;  
उवा; पण १) ।  
वणाय वि [दे] व्याव से व्याप्त (दे ७, ३५) ।  
वणार पुं [दे] दमनीय बड़ड़ा (दे ७, ३७) ।  
वणि वि [वणिन्] घाववाला, जिसको घाव  
हुआ हो वह (दे ६, ३६; पंचा १६, ११) ।  
वणि पुं [वणिज्] वनिया, व्यापारी,  
वणिअ १ वैश्य (ओप; उप ७२८ टी; सुर

१४, ६६; सुपा २७६; सुर १, ११३; प्रासू ८०; कुमा; महा) ।

वणिअ वि [वणित] वण-युक्त, धाववाला (गा ४५८; ६४६; पउम; ७५, १३) ।

वणिअ पुं [वर्नापक] भिलुक, भिलार; 'वणि जायणित्ति वणिओ पायप्पाणं वणेइत्ति' (पिड ४४३) ।

वणिअ न [वणिज] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक करण (विसे ३३४८; सुआति ११) ।

वणिआ स्त्री [वनिक्का] वाटिका, बगोचा; 'असोयवणिआइ मज्जकारम्म' (भाव ७; उवा) ।

वणिआ स्त्री [वनिता] स्त्री, महिला, नारी (गा १७; कुमा; तंडु ५०; सम्मत १७५) ।

वणिज् देखो वणिअ = वणिज् (चाव ३४) ।

वणिज् } न [वाणिज्य] व्यापार, वैपार;  
वणिज् } 'एत्तिमकालं हट्ठे जइ तं विट्ठेसि वणिज्कइ' (सुपा ५१०; २५२), 'उज्जेणी-आगओ वणिज्जेणं' (पउम ३३, ६६; स ४४३; सुर १, ६०; कुप्र ३६५, सुपा ३८४; प्रासू ८०; भवि; आ १२) । 'रय वि [कारक] व्यापारी (सुपा ३४३, उप पृ १०४) ।

वणिम } देखो वणीमय (वस ५, १, ५१) ।  
वणीमग } २ दरिद्र, निर्धन (वस ५, २, १०) ।

वणी स्त्री [वनी] ? भोक्ष से प्राप्त घन (ठा ५, ३—पत्र ३४१) । २ फली-विशेष, जिससे कपास निकलता है (राज) ।

वणीमग } पुं [वनीपक] याचक, भिलुक,  
वणीमय } भिलारी (ठा ५, ३; सुपा १६८; सण; श्रोष ४३६) ।

वणे अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ निश्चय (हे २, २०६; कुमा) । २ विकल्प । ३ अनुकम्पनीय । ४ संभावना (हे २, २०६) ।

वणेचर देखो वग-यर (रयण ५६) ।

वण्य सक [वर्ण्य] १ वर्णन करना । २ प्रशंसा करना । ३ रंगना । वण्यआमो (पि ४६०) । कर्म. वण्यज्जइ (सिरि १२८८), वण्यअइ (अप) (हे ४, ३४५) । वहु, वण्यंत (गा ३५०) । हेहु, वण्यउं (पि ५७३) । कृ. वण्यणिज्ज, वण्यअव्व (हे ३, १७६; भग) ।

वण्य पुं [वर्ण] १ प्रशंसा, श्लाघा (उप ६०७) । २ यश, कीर्ति (श्रोष ६०) । २ शुक्ल आदि रंग (भग; ठा ४, ४; उवा) । ४ अकार आदि अक्षर । ५ ब्राह्मण, वैश्य आदि जाति । ६ गुण । ७ अंगराग । ८ सुवर्ण, सोना । ९ विलेपन की वस्तु । १० व्रत-विशेष । ११ वर्णन । ११ विलेपन-क्रिया । १३ गीत का क्रम । १४ चित्र (हे १, १७७; प्राप्र) । १५ कर्म-विशेष, शुक्ल आदि वर्ण का कारण-भूत कर्म (कम्म १, २४) । १६ संयम । १७ मोक्ष, मुक्ति (आचा) । १८ न. कुंकुम (हे १, १४२) । °णाम, °नाम पुंन [°नामन्] कर्म-विशेष (राज; सम ६७) । °मंत वि [°वत्] प्रशस्त-वर्णवाला (भग) । °वाइ वि [°वादिन्] श्लाघा-कर्ता, प्रशंसक (वव १) । °वाय पुं [°वाद्] प्रशंसा, श्लाघा (पंचा ६, २३) । °वास पुं [°वास] वर्णन-प्रकरण, वर्णन-पद्धति (जीव ३; उवा) । °वास पुं [°व्यास] वर्णन-विस्तार (भग; उवा) ।

वण्य पुं [वर्ण] पंचम आदि स्वर । °सम न [°सम] गेय काव्य का एक भेद (दसनि २, २३) ।

वण्य वि [दे] १ अच्छ, स्वच्छ । २ रक्त । (दे ७, ८३) ।

°वण्य देखो पण्य (गा ६०१; गउड) ।

वण्यग देखो वण्यय (उवा; श्रौप) ।

वण्यग न [वर्णन्] १ श्लाघा, प्रशंसा (कप्पु) । २ विवेचन, विवरण, निरूपण (रयण ४) ।

वण्यणा स्त्री [वर्णना] ऊपर देखो (दे १, २१; सार्थ ४५) ।

वण्यय पुंन [दे. वर्णक] १ चन्दन, शीखण्ड (दे ७, ३७; पंचा ८, २३) । २ पिशातक-धूर्ण, अंगराग (दे ७, ३७; स्वप्न ६१) ।

वण्यय पुं [वर्णक] वर्णन-ग्रन्थ, वर्णन-प्रकरण (विपा १, १, उवा; श्रौप) ।

वणिअ वि [वणित] जिसका वर्णन किया गया हो वह (महा) ।

वणिआ देखो वणिआ (गा ६२०) ।

वणिइ पुं [वृष्णि] १ एक राजा, जो अन्धक-

वृष्णि नाम से प्रसिद्ध था; 'वणिइ पिया धारिणी माया' (अंत ३) । २ एक अन्तर्दृष्ट महर्षि; 'अक्खोम पसेणई वरही' (अंत) । ३ अन्धकवृष्णि-वंश में उत्पन्न, यादव (एदि) ।

°दसा स्त्री. व. [°दरा] एक जैन आगम-ग्रन्थ (निर ५) । °पुंगव पुं [°पुंगव] यादव-श्रेष्ठ (उत्त २२, २३; याया १, १६—पत्र २१?) ।

वणिइ पुं [वहि] १ अग्नि, आग (पाअ; महा) । २ लोकांतिक देवों की एक जाति (याया १, ८—पत्र १५१) । ३ चित्रक वृक्ष । ४ भिलावा का पेड़ । ५ नीबू का गाछ (हे २, ७५) ।

वत्त देखो वय = व्रत (चंड) ।

वति देखो वइ = व्रतिव (उप ३८१) ।

वति देखो वइ = वृति (चंड) ।

वतु पुं [दे] निवह, सपूह (दे ७, ३२) ।

वत्त देखो वट्ट = वृत् । वत्तइ (भवि), वत्तदि (शौ) (स्वप्न ६०) ।

वत्त देखो वट्ट = वतंय । वत्तइ (भवि) । वत्तेज (आचा २, १५, ४२) । वत्तेजासि, वत्तेहामि (उवा; पि ५२८) ।

वत्त न [वार्त्त] आरोग्य (उत्त १८, ३८) ।

वत्त वि [व्याप्त] फैला हुआ, भरपूर (कप्प; विसे ३०३६) ।

वत्त देखो वट्ट = वृत्त (स ३०८; महा; सुर १; १७८; ३, ७६; श्रौप; हे १, १४५) ।

वत्त वि [व्यक्त] प्रकट, खुला (धर्मसं ५५५) ।

वत्त न [वक्त्त] मुख, मुँह (हे १, १८; भवि) ।

°वत्त देखो पत्त = पत्र (गा ६०४; हेका ५०; गउड) ।

°वत्त देखो पत्त = पात्र (गउड; गा ३००) ।

वत्त° देखो वत्ता (भवि) । °यार वि [कार] वार्त्ता कहनेवाला (भवि) ।

वत्तअ पुं [व्यत्यय] १ विपर्यय, विपर्यास । २ व्यतिक्रम, उल्लंघन (प्राकृ २१) ।

वत्तए देखो वय = वच् ।

वत्तडिआ } (अप) देखो वत्ता (कुमा; हे ४,  
वत्तडी } ४३२; सण) ।

वत्तण न [वत्तन] १ जीविका, निर्वाह; 'कि न तुमं मच्छएहि कुडु वत्तणं करेसि' (कुप्र

२८) । २ आवृत्तिः परावर्तन (पंचा १२, ४३) । ३ स्थिति । ४ स्थापन । ५ वर्तन, होना । ६ वि. वृत्तिवाला । ७ रहनेवाला (संज्ञि १०) ।

वत्तणा स्त्री [वर्त्तना] ऊपर देखो; 'वत्तणा-लक्ष्णो कालो' (उत्त २६, १०; आवम) । वत्तणी स्त्री [वर्त्तनी] मार्ग, रास्ता (परह १, ३—पत्र ५४; वित्ते १२०७; सूत्रनि ६१ टी; सुपा ५१८) ।

वत्तद्ध वि [दे] १ सुन्दर । २ बहु-शिक्षित (दे ७, ८५) ।

वत्तमाण पुं [वर्त्तमान] १ काल-विशेष, चलता काल (प्राप्र; संज्ञि १०) । २ वि. वर्त्तमान-कालीन, विद्यमान । ३ पुं विद्यमानता (वर्मसं ५७३) ।

वत्तारि देखो सत्तारि (सम ८३; प्रासू १२६; पि ४४६) ।

वत्तव्य देखो वय = वच् ।

वत्ता स्त्री [दे] सूत्र-चलनक, सूत्र-वेष्टन-यन्त्र (परह १, ४—पत्र ७८; तंदु २०) । देखो चत्ता = (दे) ।

वत्ता स्त्री [वार्त्ता] १ वात, कथा (सि ६, ३८; सुपा ३८७; प्रासू १; कुमा) । २ वृत्तान्त, हकीकत (पात्र) । ३ वृत्ति । ४ दुर्गा । ५ कृपि-कर्म, खेती । ६ जनश्रुति, किंवदन्ती । ७ गन्ध का अनुभव । ८ काल-कर्तृक भूत-नाश (हे २, ३०) । °लाव पुं [°लाप] वातचीत (सिरि २८२) ।

वत्तार वि [दे] गवित, गर्व-युक्त (दे ७, ४१) ।

वत्ति स्त्री [दे] सीमा (दे ७, ३१) ।

वत्ति देखो वट्टि (गा २३२; ६५८; वित्ते १३६८) ।

वत्ति वि [वर्त्तिन्] वर्तनेवाला (महा) ।

वत्ति स्त्री [वृत्ति] प्रवृत्ति (सूत्र २, ४, २) । देखो वित्ति ।

वत्ति स्त्री [व्यक्ति] अमुक एक वस्तु, एकाकी वस्तु । °पड्डा स्त्री [°प्रतिष्ठा] प्रतिष्ठा-विशेष, जिस समय में जो तीर्थकर विद्यमान हो उसके विन्द्व की विधि-पूर्वक स्थापना (चिद्व ३५) ।

वत्तिअ वि [वात्तिक] कर्वाकार, 'वत्तिअओ' (हे २, ३०) । २ पुंन. टीका की टीका (सम

४६; वित्ते १४२२) । ३ ग्रंथ की टीका—व्याख्या (वित्ते १३८५) ।

वत्तिअ वि [वत्तिअ] १ वृत्त—नोल किया हुआ (गाया १, ७) । २ आच्छादित (पडि) ।

°वत्तिअ देखो पच्चय = प्रत्यय (श्रौप) ।

वत्तिआ देखो वट्टिआ (प्राप्र) ।

वत्तिणी स्त्री [वर्त्तिनी] मार्ग, रास्ता (पात्र; स ४; सुर १२, १३६) ।

°वत्ती देखो पत्ती = पत्नी (ना ७६; १०६; १७३) ।

वत्तु देखो वय = वच् ।

वत्तुकाम वि [वक्त्तुकाम] बोलने की चाह-वाला (स ३१८; अमि ४४; स्वप्न १०; नाट—विक्र ४०) ।

वत्तुल देखो वट्टुल (राज) ।

वत्थ पुंन [वत्थ] कपड़ा (आचा २; १४, २२; उवा; परह १, १; उप पृ ३३३; सुपा ७२; ४६१; कुमा; सुर ३, ७०) । °खेडु न

[°खेल] कला-विशेष (जं २ टी—पत्र १३७) । °धोव वि [°धाव] वस्त्र बोनवाला (सूत्र १, ४, २, १७) । °पूस पुं [°पुष्य] एक जैन मुनि (कुलक २२) । °पूसमित्त पुं

[°पुष्यमित्त] एक जैन मुनि (ती ७) । °विज्ञा स्त्री [विद्या] विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से वस्त्र स्वयं कराने से ही बीमार अच्चा हो जाय (वव ५) । °सोहरा वि

[°शोधक] वस्त्र बोनवाला (स ४१) ।

वत्थ वि [व्यस्त] प्रवृत्त, भिन्न, जुदा (सुर १६, ५५) ।

वत्थउड पुं [दे. वत्थपुट] तंदु, कपड़-कोट, वस्त्र-गृह (दे ७, ४५) ।

वत्थए देखो वस = वस् ।

वत्थंग पुं [वत्थाङ्ग] कल्पवृक्ष की एक जाति, जो वस्त्र देने का काम करता है (परम १०२, १२१) ।

°वत्थर देखो पत्थर = प्रस्तर (गा ५५१) ।

वत्थलिज्ज न [वत्थलिय] दो जैन मुनि-कुलों के नाम (कप्प) ।

वत्थव्य वि [वास्तव्य] रहनेवाला, निवासी (पिड ४२७; सुर ३, ६१; सुपा ३६५; महा) ।

वत्थाणी स्त्री [दे] बल्ली-विशेष (परण १—पत्र ३३) ।

वत्थाणीअ पुंन [दे] खाद्य-विशेष, 'हृत्थेण वत्थाणीएण भोच्चा कज्जं साधेति' (सुज १०, १७) ।

वत्थि पुं [वत्थि] २ वृत्ति, मसक (भग १, ६; १८, १०; गाया १, १८), 'वत्थिव्वं वायपुराणो अत्तुक्करिसेण जहा तथा लवड' (संवेव १८) । २ अग्रान; गुदा; 'वत्थी अवाए' (पात्र; परह १, ३—पत्र ५३) ।

३ छाते में शलाका—मली—सलाई बैठने का स्थान, छत्र का एक अवयव (श्रौप) । °कम्म न

[°कर्मन्] १ निर आदि में चर्म-वेष्टन द्वारा किया जाता तेल आदि का पूरण । २ मल साफ करने के लिए गुदा में वत्थी आदि का

किया जाता प्रलेप (विपा १, १—पत्र १४; गाया १, १३) । °पुडग पुंन [°पुटक] पेट का भीतरी प्रदेश (निर १, १) ।

वत्थिय पुं [वात्थिक] वस्त्र बनानेवाला शिल्पी (अणु) ।

वत्थी स्त्री [दे] उट्ट, तापसों को परण-कुटी (दे ७, ३१) ।

वत्थु न [वत्थु] १ पदायं, चीज (पात्र; उवा; सम्म ८; सुपा ४०१; प्रासू ३०; १६१; ठा ४, १ टी—पत्र १८८) । २ पुंन. पूर्व-अर्थों का अव्ययन—प्रकरण, परिच्छेद (सम २५; अंदि; अणु; कम्म १, ७) । °पाल, °वाल

पुं [°पाल] राजा वीरवज्र का एक सुप्रसिद्ध जैन मंत्री (ती २; हम्मौर १२) ।

वत्थु न [वास्तु] १ गृह, घर; 'खेत्तवत्थुविहि-परिमाणं करेइ' (उवा) । २ गृहादि-निर्माण-शास्त्र (गाया १, १३) । ३ शाक-विशेष (उवा) । °पाठग वि [°पाठक] वास्तु-शास्त्र का अभ्यासी (गाया १, १३; वर्मवि ३३) । °विज्ञा स्त्री [°विद्या] गृह-निर्माण-कला (श्रौप; जं २) ।

वत्थुल पुं [वत्थुल] शुद्ध और हरित वनस्पति-विशेष, शाक-विशेष (परण १—पत्र ३२; ३४; पत्र २५६) ।

वत्थूल पुं [वत्थूल] ऊपर देखो; 'वत्थु (?त्थु) ला वेगपल्लका' (जी ६) ।

वद् देखो वय = वद् । वदसि, वदह (उवा; भग; कप्प) । भूका. वदासी (भग) । हेक्. वदिन्त्तए (कप्प) ।

वद् देखो वय = वत्त (प्राक् १२; नाट—विक्र ५६) ।

वदिसा देखो वडेसा (इक) ।

वदिकलिअ वि [ दे ] वलित, लौटा हुआ (दे ७, ५०) ।

वदूमग देखो वडुमग (आचा) ।

वदल न [दे. वार्दल] १ वदल, वादल, मेघ-घटा, दुदिन (दे ७, ३५; हे ४, ४०१; सुपा ६५५; राय; आवम; ठा ३, ३—पत्र १४१) । २ पुं. छठवीं नरक का दूसरा नरकेन्द्रक—नरक-स्थान (देवेन्द्र १२) ।

वदलिया स्त्री [दे. वार्दलिका] वदली, छोटा वदल, दुदिन (भग ६, ३३—पत्र ४६७, औप) ।

वद्ध देखो वड्ढ = वर्धय् । कर्म. वद्धसि (सुपा ६०) ।

वद्ध पुंन [वर्ध] चर्म-रज्जु; वज्जो वद्धो (? वम्मो वद्धो) (पात्र; दे ६, ८८; पव ८३; सम्मत्त १७४) ।

वद्ध देखो विद्ध = वृद्ध (प्राप्र; प्राक् ७) ।

वद्धण न [वर्धन] १ वृद्धि; वद्धती (आया १, १; कप्प) । २ वि. वढ़ानेवाला (उप ६७३; महा) ।

वद्धणिआ स्त्री [वर्धनिका, नी] संमार्जनी, वद्धणी } भाडू (दे ८, १७; ७, ४१ टी) ।

वद्धमाण पुं [वर्धमान] १ भगवान् महावीर (आचा २, १५, १०; सम ४३; अंत; कप्प; पडि) । २ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य (साधं ६३; विचार ७६; ती १५; गु ८) । ३ स्कन्वारोपित पुरुष, कन्वे पर चढ़ाया हुआ पुरुष (अंत; औप) । ४ एक शाश्वत जिन-देव । ५ एक शाश्वती जिन-प्रतिमा (पव ५६) । ६ न. गृह-विशेष (उत्त ६, २४) । ७ राजा रामचन्द्र का एक प्रेक्षा-गृह—नाट्य-शाला (पउम ८०, ५) । देखो वड्ढमाण ।

वद्धमाणग पुं [वर्धमानक] १ अठ्ठासी वद्धमाणय महाग्रहों में एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३—७८) । २ एक देव-विमान (देवेन्द्र १४०) । ३ न. पात्र-विशेष,

शराव (आया १, १—पत्र ५४; पउम १०२, १२०) । ४ पुं. पुरुष पर आरूढ़ पुरुष, पुरुष के कन्वे पर चढ़ा हुआ पुरुष । ५ स्वस्तिक-पठक । ६ प्रासाद-विशेष, एक तरह का महल (आया १, १—पत्र ५४; टी—पत्र ५७) । ७ न. एक गाँव का नाम, अस्थिक ग्राम; अद्विगामस्स पढमं वद्धमाणयं ति नामं होत्या' (आवम) । ८ वि. कृता-भिमान, अभिमानी, गर्वित (औप) ।

वद्धय वि [दे] प्रयान, मुख्य (दे ७, ३६) ।

वद्धार सक [वर्धय्] बढ़ाना, गुजराती में 'वधारखु' । वक्. वद्धारंत (सट्टि १२; संवोध ४; द्र ८) ।

वद्धारिय वि [वर्धित] बढ़ाया हुआ (भवि) ।

वद्धाव सक [वर्धय्, वर्धापय्] बढ़ाई देना । बढ़ावेइ, बढ़ावेंति (कप्प) । कर्म. बढ़ावीअसि (रंभा) । वक्. वद्धावित्त (सुपा २२०) । संक्. वद्धावित्ता (कप्प) ।

वद्धावण न [वर्धन, वर्धापन] बढ़ाई, अम्युदय-निवेदन (भवि; सुर ३, २४; महा; सुपा १२२; १३४) ।

वद्धावणिया स्त्री [वर्धनिका, वर्धापनिका] ऊपर देखो (सिरि १३१६) ।

वद्धावय वि [वर्धक, वर्धापक] बढ़ाई देने-वाला (सुर १५, ७६; स ५७०; सुपा ३६१) ।

वद्धाविअ वि [वर्धित, वर्धापित] जिसको बढ़ाई दी गई हो वह (सुपा १२२; १६५) ।

वद्धिअ पुं [दे] १ परद, नपुंसक (दे ७, ३७) । २ नपुंसक-विशेष, छोटी उन्न में ही छेद दे कर जिसका अण्डकोप गलाया गया हो वह; वधिया (पव १०६ टी) ।

वद्धिअ देखो वड्ढिअ = वृद्ध (भवि) ।

वद्धी स्त्री [दे] अवश्य-कृत्य, आवश्यक कर्तव्य (दे ७, ३०) ।

वद्धीसक पुंन [दे. वद्धीसक] वाद्य-विशेष, वद्धीसग एक प्रकार का बाजा (परह २, ५—पत्र १४६; अनु ६) ।

वध देखो वह = वध (कुमा) ।

वधय देखो वहय (भग) ।

वधू देखो वहु (औप) ।

वन्न देखो वण्ण = वर्णय् । वन्नेहि (कुमा; उव) । हेक्. वन्निउं (कुमा) । क. वन्नणिज्ज (सुर २, ६७; रयण ५४) ।

वन्न देखो वण्ण = वर्ण (भग; उव; सुपा १०३; सत्त ५६; कम्म ४, ४०; ठा ५, ३) ।

वन्नग देखो वण्णय (कप्प; आ २३) ।

वन्नण देखो वण्णण (उप ७६८ टी; सिरि ७२७) ।

वन्नणा देखो वण्णणा (रंभा) ।

वन्नय देखो वण्णय (पिड ३०८; कप्प) ।

वन्निअ देखो वण्णिअ (भग) ।

वन्निआ स्त्री [वाणिका] १ वानगी, नमूना; 'सग्गल्ल वन्निया मिव त्थरं इह अत्थि पाडली-पुत्तं' (धर्मवि ६४) । २ लाल रंग की मिट्टी (जी ३) ।

वन्हि देखो वण्हि = वृष्णि (उत्त २२, १३) ।

वन्हि देखो वण्हि = वहि (चंड) ।

वपु देखो वउ = वपुस् (वव १) ।

वप्प सक [त्वच्] ढकना, आच्छादन करना । वप्पइ (धात्वा १५१) ।

वप्प पुं [वप्प] १ विजयक्षेत्र-विशेष, जंबूद्वीप का एक प्रान्त, जिसकी राजधानी विजया है (ठा २, २—पत्र ८०; जं ४) । २ पुंन. किला, दुर्ग, कोट (ती ८) । ३ केदार, खेत; 'केआरो वप्पियं वप्पो' (पात्र; आचा २, १, ५, २; दे ७, ८३ टी) । ४ तट, किनारा; 'रोहो वप्पो य तडो' (पात्र) । ५ उन्नत भू-भाग, ऊँची-जमीन; 'वप्पाणि वा फलिहाणि वा पागाराणि वा' (आचा २, १; ५, २) ।

वप्प वि [दे] १ तनु, कृश । २ बलवान्, वलिष्ठ । ३ भूत-गृहीत, सूताविष्ट (दे ७, ८३) ।

वप्पइराय देखो व-प्पइराय ।

वप्पगा देखो वप्पा (राज) ।

वप्पगावई स्त्री [वप्पगावती] जंबूद्वीप का एक विजय-क्षेत्र, जिसकी राजधानी का नाम अपराजिता है (ठा २, ३—पत्र ८०; इक) ।

वप्पा स्त्री [वप्प] उन्नत भू-भाग, टेकड़ा, ऊँची जमीन (भग १५—पत्र ६६६) ।

वप्पा स्त्री [वप्पा] १ भगवान् नमिनाथजी की माता का नाम (सम १५१) । २ दशवें

चक्रवर्ती राजा हरिषेण की माता का नाम (पउम ८, १४४; सम १५२) ।  
 वपिअ पुं [दे] १ केदार, खेत (पड्) ।  
 २ नयुंसक-विशेष (पुण् १२६) । ३ वि. रक्त, राग-युक्त (पड्) ।  
 वपिण पुंन [दे] १ केदार, खेत (दे ७, ८५; औप; णाया १, १ टी—पत्र २; पात्र; पउम २, १२; पणह १, १; २, ५) । २ वि. उपित, जिसने वास किया हो वह (दे ७, ८५) ।  
 वपिण पुंन [दे] १ केदारवाला देश । २ तटवाला देश (भग ५, ७—पत्र २३८) ।  
 वपी देखो वप्पा = वप्र (भग १५—पत्र ६६६) ।  
 वपीअ पुं [दे] चातक पक्षी (दे ७, ३३) ।  
 वपीडिअ न [दे] क्षेत्र, खेत (दे ७, ४८) ।  
 वपीह पुं [दे] स्तूप, मिट्टी आदि का कूट (दे ७, ४०) ।  
 वप्पु देखो वउ = वपुस् (भग १५—पत्र ६६६) ।  
 वप्पे अ [दे] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ उपहास-युक्त उल्लापन । २ विस्मय, आश्चर्य (संज्ञि ४७) ।  
 वप्पाउल देखो वप्पाउल (दे ६, ६२ टी) ।  
 वपर न [दे] शत्रु-विशेष (सुर १३, १५६) ।  
 वउभं देखो वह = वह् ।  
 वउभ पुं [वभ्र] पशु-विशेष (सं ४३७) ।  
 वउभय न [दे] कमलौदर, कमल का मध्य भाग (दे ७, ३८) ।  
 वभिचरिअ वि [व्यभिचरित] व्यभिचार दोष से दूषित (आ १४) ।  
 वभिचार देखो वहिचार (सं ७११) ।  
 वभिचारि वि [व्यभिचारिन्] १ न्याय-शास्त्रोक्त दोष-विशेष से दूषित, ऐकान्तिक (धर्मसं १२२७; पंचा २, ३७) । २ परस्त्री-सम्पत् (वव ६; ७) ।  
 वभिचार देखो वहिचार (उवर ७६) ।  
 वम सक [वम्] उलटी करना, कै करना ।  
 वऊ. वमंत, वममाण (गउड; विपा १, ७) ।  
 संऊ. वंता (आचा; सुप्र १, ६, २६) । ऊ. वन्म (उर १, ७) ।

वमग वि [वामक] उलटी करनेवाला (चैय १०३) ।  
 वमण न [वमन] उलटी, वान्ति, कै (आचा; णाया १, १३) ।  
 वमाल सक [पुअय] १ इबट्टा करना ।  
 २ विस्तारना । वमालइ (हे ४, १०२; पड्) ।  
 वमाल पुं [दे] कलकल, कोलाहल (दे ६, ६०; पात्र; स ४३५; ५२०; भवि) ।  
 वमाल पुं [पुअ] राशि, ढग (सण) ।  
 वमालण न [पुअन] १ इकट्टा करना । २ विस्तार । ३ वि. इकट्टा करनेवाला । ४ विस्तारनेवाला (कुमा) ।  
 वम्म पुंन [वर्मन्] कवच, संनाह, बस्तर (प्राप्र; कुमा) ।  
 वम्म देखो वम ।  
 वम्मथ पुं [मम्मथ] कामदेव, कंदर्प  
 वम्मह } (चंड; प्राप्र; हे १, २४२; २, ६१; पात्र) ।  
 वन्मा देखो वामा (कप्प; पउम २०, ४६; सुख २३, १; पत्र ११) ।  
 वम्मिअ वि [वर्मित] कवचित, संनाह-युक्त (विपा १, २—पत्र २३) ।  
 वम्मिअ पुं [वल्मीक] कीट-विशेष-कृत  
 वम्मिअ } मिट्टी का स्तूप, डूह या भीटा,  
 दीमकों के रहने की बाँधी (सुप्र २, १, २६;  
 हे १, १०१; पड्; पात्र; स १२३; सुपा ३१७) ।  
 वम्मिइ पुं [वालमीकि] एक प्रसिद्ध ऋषि,  
 रामायण-कर्ता मुनि (उत्तर १०३) ।  
 वम्मिसर पुं [दे] काम, कन्दर्प (दे ७, ४२) ।  
 वम्ह न [दे] वल्मीक (दे ७, ३१) ।  
 वम्ह पुं [व्रह्मन्] १ वृक्ष-विशेष, पलाश का पेड़; 'नग्गोहवम्हा तल्' (पउम ५३, ७६) ।  
 २ देखो वंभ (प्राप्र) ।  
 वम्हल न [दे] केसर, किजल्क (दे ७, ३३; हे २, १७४) ।  
 वन्हाण देखो वंभण (कुमा) ।  
 वय सक [वच्] बोलना, कहना । वयइ, वयए (पड्) । भवि. वच्छिहिइ, वच्छिइ, वच्छिहिइ, वच्छित, वच्छित, वोच्छिइ, वोच्छिहिइ, वोच्छित, वोच्छिहित, वोच्छं (संज्ञि ३२; पड्; हे ३, १७१; कुमा) । कर्म. वुचइ

(कुमा) । कर्म. भवि. वऊ. वक्खमाण (विसे १०५३) । संऊ. वइत्ता, वञ्जा, वोत्तूण (ठा ३, १—पत्र १०८; सुप्र २, १, ६; हे ४, २११; कुमा) । हेऊ. वत्तए, वत्तुं, वोत्तुं (आचा; भमि १७२; हे ४, २११; कुमा) । ऊ. वञ्ज, वत्तव्व, वोत्तव्व (विसे २; उप १३६ टी; ६४८ टी; ७६८ टी; पिड ८७; धर्मसं ६२२; सुर ४, ६७; सुपा १५०; औप; उवा; हे ४, २११) । देखो वयणिज्ज ।  
 वय सक [वट्] बोलना, कहना । वयइ, वयसि (कस; कप्प), वइजा, वएजा (कप्प) । भूका. वयासि, वयासी (औप; कप्प; भग; महा) । वऊ. वयंत, वयमाण, वएमाण (कप्प; काल; ठा ४, ४—पत्र २७४; सम्म ६६; ठा ७) । संऊ. वइत्ता (आचा) । हेऊ. वइत्तए (कप्प) ।  
 वय सक [व्रज्] जाना, गमन करना । वयइ (सुर १, २४८) । वयउ (महा), वइज (गच्छ २, ६१) । ऊ. वयंत (सुर ३, ३७; सुपा ४३२) । ऊ. वइयव्व (राजा) ।  
 वय पुं [वृक] पशु-विशेष, भेड़िया (पउम ११८, ७) ।  
 वय पुं [दे] वृत्र पक्षी (दे ७, २६; पात्र) ।  
 वय पुं [वज] १ संस्कार-करण । २ गमन (आ २३) ।  
 वय पुं [व्रज] १ देश-विशेष (गा ११२) ।  
 २ गोकुल, दस हजार गौश्रां का समूह (णाया १, १ टी—पत्र ४३; आ २३) । ३ मार्ग, रास्ता । ४ संस्कार-करण । ५ गमन, गति (आ २३) । ६ समूह, वृथ (आ २३; स २६७; सुपा २८८; ती ३) ।  
 वय पुं [व्यय] १ खर्च (सं ५०३) । २ हानि, नुकसान (उव; प्रासू १८१) । देखो विअ = व्यय ।  
 वय न [वचस्] वचन, उक्ति (सुप्र १, १, २, २३; १, २, २, १३; सुपा १६४; मास ६१; वं २२) । °समिअ वि [°समित] वचन का संयमी (भग) ।  
 वय पुं [वट्] कथन, उक्ति (आ २३) ।  
 वय पुंन [व्रत] नियम, धार्मिक प्रतिज्ञा (भग; पंचा १०, ८; कुमा; उप २११ टी; औपमा

२; प्रासू १५४) । °मंत वि [°वत् ] व्रती (आचा २; १, ६, १) ।  
 वय पुंन [ वयस् ] १ उग्र, मायु (ठा ३, ३; ४, ४; गा २३२; उप पृ १८; कुमा; प्रासू ४८; आ १४) । २ पत्नी (गउड; उप पृ १८) । °स्थ वि [°स्थ] तृण; युवा (सुख १, १६) । °परिणाम पुं [°परिणाम] वृद्धता, बुढ़ापा (से ४, २३; पाप्र) ।  
 °वय पुं [पच] पचन, पाक (आ २३) ।  
 °वय देखो पय = पद (स ३४५; आ २३; गउड कप्पु; से १, २४) ।  
 °वय देखो पय = पयस् (कुमा) ।  
 वयंग न [दे] फल-विशेष (सिरी ११६८) ।  
 वयंतरिअ वि [वृत्यन्तरित] वाड़ से तिरो-हित (दे २, ६३) ।  
 वयंस पुं [वयस्य] समान उमरवाला मित्र (ठा ३, १—पत्र ११४; हे १, २६; महा) ।  
 वयंसि देखो वचंसि = वचस्विन् (राज) ।  
 वयंसी स्त्री [वयस्या] सखी, सहेली (कप्पु) ।  
 वयड पुं [दे] वाटिका, बगीचा (दे ७, ३५) ।  
 वयण न [दे] १ मन्दिर, गृह । २ शय्या, विद्योना (दे ७, ८५) ।  
 वयण पुंन [वदन] १ मुख, मुंह; 'वअणो, वअणं' (प्राक ३३; पि ३५८; सुर २, २४३; ३, ४४; प्रासू ६२) । २ न. कथन, उक्ति (विसे २७६४) ।  
 वयण पुंन [वचन] १ उक्ति, कथन; 'वयणा, वयणाई' (हे १, ३३; पव २; सुर ३, ६४; प्रासू १४; १३४; १५०; कुमा) । २ एकत्व आदि संख्या का बोधक व्याकरण-शास्त्रोक्त प्रत्यय (परह २, २ टी—पत्र ११८) ।  
 वयणिज्ज वि [वचनीय] १ वाच्य, कथनीय, अभिधेय; 'वयु दव्वट्टिअत्त वयणिलं' (सम्म ८; सूअ २, १, ६०) । २ निन्दनीय (सुपा ३००) । ३ उपालम्भनीय, उजहना देने योग्य (कुप्र ३) । ४ न. वचन, शब्द (से ४, १३; सम्म ५३; काप्र ८६६) । ५ लोकापवाद, निन्दा (स ५३२) ।  
 वयर वि [दे] चूर्णित (दे ७, ३४) ।  
 वयर देखो वडर = वज्र (कप्पु; उव; ओषभा ८; सार्ध ३५; भाग; श्रौप) ।  
 °वयर देखो पयर = प्रकर (से १, २२) ।

वयराड देखो वडराड (सत्त ६७ टी) ।  
 वयल वि [दे] १ विकसता, खिलता (दे ७, ८४) । २ पुं. कलकल, कोलाहल (दे ७, ८४; पाप्र) ।  
 वयली स्त्री [दे] लता-विशेष, निद्राकरी लता (दे ७, ३४; पाप्र) ।  
 °वयस देखो वय = वयस्; 'सवयसं' (आचा १, ८, २, २) ।  
 वयस्स देखो वयंस (स ३१४; मोह ४७; अग्नि ५५; स्वप्न ७६) ।  
 वया स्त्री [वपा] १ विवर, छिद्र । २ मेद, चरवी (आ २३) ।  
 वया स्त्री [वचा] १ ओपधि-विशेष । २ मैना, सारिका (आ २३) । देखो वचा ।  
 वया स्त्री [व्यजा] १ मार्ग-विशेष, ऊप को खोचने के लिए रज्जुबद्ध घट आदि डालने का मार्ग । २ प्रेरण-दण्ड (आ २३) ।  
 वर सक [वृ] १ सगाई करना, संबन्ध करना । २ आच्छादन करना, ढकना । ३ याचना करना । ४ सेवा करना । वरइ (हे ४, २३४; सुज १६; प्राप्र; पड), 'वरं वरंहि' (कुप्र ८०), 'वरं वरसु इच्छिअं' (आ १२) । भवि. वरिसइ (सिरी ८१६) । क. वरणीअ (पउम २८, १०४) ।  
 वर सक [वरय्] १ प्राप्त करने की इच्छा करना । २ संछृष्ट करना । वरइ, वरयति (भवि; सुज्ज ७); 'के सूरियं वरयते' (सुज्ज १, १) । वक. वरिति (सुज्ज ७) ।  
 वर पुं [वर] १ पति, स्वामी, दुलहा (स ७८; स्वप्न ४१; गा ४०४; ४७६; भवि) । २ वरदान, देव आदि का प्रसाद (कुमा; आ १२; २७; कुप्र ८०; भवि) । ३ वि. श्रेष्ठ, उत्तम (कप्पु; महा; कुमा; प्रासू ५२; १७५) । ४ अभीष्ट (आ १२; कुप्र ८०) । ५ न. कुछ अभीष्ट, अर्थात्; 'वरं मे अय्या दंतो' (उत्त १, १६; प्रासू २२; ३८; १०६) । °दत्त पुं [°दत्त] १ भगवान् नेमिनाथजी का प्रथम शिष्य (सम १५२; कप्पु) । २ एक राज-कुमार (विपा २, १; १०) । °दाम न [°दामन्] एक तीर्थ (ठा ३, १—पत्र १२२, इक; सण) । °धणु पुं [°धनुप्] एक मन्त्रिकुमार, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का वाल-

मित्र (महा) । °पुरिस पुं [°पुरय] वासुदेव (परण १७—पत्र ५२६; राय; आवम, जीव ३) । °माल पुं [°माल] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३३) । °माला स्त्री [°माला] वर को पहनायी जाती माला; वरत्व-सूचक माला (कुप्र ४०७) । °रुइ पुं [°रुचि] राजा नन्द के समय का एक विद्वान् ब्राह्मण (कुप्र ४४७) । °वरिया स्त्री [°वरिका] अभीष्ट वस्तु मांगने के लिए की जाती घोषणा, ईप्सित वस्तु के दान देने की घोषणा (राया १, ८—पत्र १५१; आवम; स ४०१; सुर १६, १८; सुपा ७२) । °सरक न [°सरक] खान-विशेष (परह २, ५—पत्र १४८) । °सिद्ध पुंन [°शिष्ट] यम लोकपाल का एक विमान (भाग ३, ७—पत्र १६७; देवेन्द्र २७०) ।  
 वर देखो वार । °विलया स्त्री [°वनिता] वेश्या (कुमा) । °वर देखो पर; 'जीवाणम-भयदाणं जो देइ दयावरो नरो निच्चं' (कुप्र १८२) ।  
 वरइअ वि [दे] धान्य-विशेष (दे ७, ४६) ।  
 वरइत्त पुं [दे. वरयित्] अभिनव वर, दुलहा (दे ७, ४४; पड; भवि) ।  
 वरई देखो वरय = वराक ।  
 वरउप्प वि [दे] मृत (दे ७, ४७) ।  
 वरं देखो परं = परम्; 'अदो वरं विरुद्धमहाण इत्य अक्खयाणं' (मोह ६२; स्वप्न २०६) ।  
 वरंड पुं [वरण्ड] १ दीर्घ काष्ठ; लम्बी लकड़ी । २ भित्ति, भौत (मुच्छ ६) ।  
 वरंड पुं [दे] १ तृण-पुञ्ज, तृण-संचय (चार ३) । २ प्राकार, किला (दे ७, ८६; पड) । ३ कपोतपाली, गाल पर लगाई जाती कस्तूरी आदि की छटा (दे ७, ८६) । ४ समूह (गा ६३०) ।  
 वरंडिया स्त्री [दे] छोटा वरंडा, वरामदा, दालान (सुपा २०३) ।  
 वरकख न [वराख्य] गन्ध-द्रव्य विशेष, सिन्धक (से ६, ४४) ।  
 वरकख पुं [वराक्ष] १ योगी । २ यक्ष । ३ वि. श्रेष्ठ इन्द्रियवाला (से ६, ४४) ।  
 वरकखा स्त्री [वराख्या] त्रिफला (से ६, ४४) ।

वरग न [वरक] महामूल्य पात्र, कीमती भाजन (आचा २, १, ११, ३)।

वरट्ट पुं [दे] वान्य-विशेष (पव १५४)।

वरडा } लो [दे. वरटा] १ तैलाढी, कीट-  
वरडी } विशेष, गंधोली । २ दंश-भ्रमर-  
जन्तु-विशेष (मृच्छ १२; दे ७, ८४)।

वरण पू [वरग] १ सगाई, विवाह-संबन्ध (सुपा ३५४; मुग् १.१२६; ४.१०)। २ तट, किनारा (गडड)। ३ पूल, सेतु (ओघ ३०)। ४ प्राकार, किला (गा २४५)। ५ स्वीकार, ग्रहण (राज)। देखो वीर-वरण। ६ पुं. देश-विशेष, एक आर्य देश; 'वडराड वच्छ वरणा अच्चा' (सुअनि ६६ टी; इक), देखो वरुण।

वरणय न [वरणक] तुण-विशेष (गडड)।  
वरणसि (अप) देखो वाराणसी (पि ३५४)।  
वरणा लो [वरणा] १ काशी की एक नदी, वल्गा (राज)। २ अच्छ देश की प्राचीन राजधानी (सुअनि ६६ टी)। देखो वरुणा।  
वरणीअ देखो वर = वृ।

वरत्त वि [दे] १ पीत। २ पवित। ३ पेटित, संहत (पड)।

वरत्ता लो [वरत्ता] रज्जु, रस्ती (पात्र; विपा १, ६; सुपा ५६२)।

वरय पुं [वरक] सगाई करनेवाला, विवाह का प्राथक पुष्प (सुर ६, ११५)।

वरय पुं [दे] शालि-विशेष, एक तरह का धान्य (दे ७, ३६)।

वरय वि [वराक] दीन, नरीय, बेचारा, रंक (पात्र; सुर २, १३; ६, १६५; सुपा ६३; गा ५३३)। लो. °रई (संति २; पि ८०)।

वरला लो [वरला] हंसी, हंतपक्षी की मादा (पात्र)।

वरसि देखो वरिसि (मोह ३०)।

वरहाड अक [निर + सु] बाहर निकलना।  
वरहाडइ (हे ४, ७६)।

वरहाडिअ वि [नि.सृत] बाहर निकला हुआ, निर्गत (कुमा)।

वराग देखो वराय (रंभा)।

वराड } पुं [वराट, °क] १ वक्षिण का  
वराडग } एक देश, जो आजकल भी 'वरा' वराडय } नाम से प्रसिद्ध है (कुप्र २५५; सुख १८, ३५; राज)। २ कपदक, कौड़ा—

वड़ी कौड़ी (वत्त ३६, १३०; ओघ ३३४; आ १)। ३ न. कौड़ियों का जूआ जिसे बालक खेलते हैं (मोह ८६)।

वराडिया लो [वराटिका] कपदिका, कौड़ी (सुपा २०३)।

वराय देखो वरय = वराक (गा ६१; ६६; १४१; महा)। लो. °राइआ, °राई (गा ४६२; पि ३५०)।

वरावड पुं. व. [वरावट] देश-विशेष (पउम ६८, ६४)।

वराह पुं [वराह] १ शूकर, सूअर (पात्र)। २ भगवान् सुविधिनाय का प्रथम शिष्य (सम १५२)।

वराही लो [वराही] विद्या-विशेष (विसे २४५३)।

वरि अ [वरम्] अच्चा, ठीक;

'वरि मरणं मा निरहो,

निरहो अइइसहो म्ह पडिहाइ।

वरि एककं चिय मरणं,

जेण समपंति दुक्खाई॥'

(सुर ४, १८२; भवि)।

वरिअ देखो वज्ज = वयं (हे २, १०७; पड)।

वरिअ वि [वृत्त] १ स्वीकृत (से १२, ८८)।

२ सेवित (भवि)। ३ जिसकी सगाई की गई हो वह (वसु; महा)। ४ न. सगाई करना; 'सुवरियं ति' (उप ६४८ टी)।

वरिट्ट पुं [वरिष्ठ] १ भरत-क्षेत्र का भावी वारहवां चक्रवर्ती राजा (सम १५४)। २ अति-श्रेष्ठ (ओप; कप्प; उप पृ ३८४; सुपा ४०३; भवि)।

वरिल्ल न [दे] वज्र-विशेष (कप्प)।

वरिस चक [वृप्] वरसना, वृष्टि करना।

वरिसइ (हे ४, २३५; प्राप्र)। वहु.

वरिसंत, वरिसमाण (सुपा ६२४; ६२३)।

हेहु. वरिसिअं (पि १३५)।

वरिस पुंन [वर्ष] १ वृष्टि, वर्षा (कुमा; कप्प; भवि)। २ संवत्सर, साल (कुमा; सुपा ४५२; नव ६; दं २७; कप्प; कम्म १, १८)। ३ जंबूद्वीप का अंश-विशेष, भारत आदि क्षेत्र। ५ मेघ (हे २, १०५)। °अ वि [°ज] वर्षा में उत्पन्न (पड)। °कण्ह न [°कण्ह] १ एक गोत्र। २ पुंलो. उस गोत्र

में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०)। °धर पुं [°धर] अन्तःपुर-रक्षक एण्ड-विशेष (ग्याया १, १—पत्र ३७; कप्प; ओप ५५ टि)। °धर पुं [°धर] वही अगन्तरोक्त अर्थ (ओप)। देखो वास = वयं।

वरिसविअ वि [वर्षित] वरजाया हुआ (सुपा २२३)।

वरिसा लो [वर्षा] १ वृष्टि, पानी का वरसना (हे २, १०५)। २ वर्षा-काल, आवण और भादो का महोना (प्रथो ७४)। °काल पुं [°काल] वर्षा ऋतु, प्रावृत् (कुप्र ७५)। °रत्त पुं [°रात्र] वही अर्थ (ठा ६; ग्याया १, १—पत्र ६३)। °ल देखो °काल (पत्र ८५; महा)। देखो वासा।

वरिसि वि [वर्षिन्] वरसनेवाला (वेणी १११)।

वरिसिर्णा लो [वर्षिणी] विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)।

वरिसोलक पुं [दे. वर्षोलक] पक्काव-विशेष, एक प्रकार का ज्ञाय (पव ४ टी)।

°वरिहरिअ देखो परिहरिअ (से ७, ३८)।

वरु } पुंन [दे] देखो वरुअ; 'चंपयतरुणो  
वरुअ } वरुणो फुल्लंति सुरहिजलसिचा (?  
ता)' (संबोव ४७)।

वरुंट पुं [वरुण्ट] एक शिल्पि-जाति (राज)।

वरुड पुं [वरुड] एक अन्वयज-जाति (दे २, ८४)।

वरुण पुं [वरुण] १ अमर आदि इन्द्रों का पश्चिम दिशा का लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७; १६८; इक)। २ वलि-आदि इन्द्रों का उत्तर दिशा का लोकपाल (ठा ४, १)।

३ लोकान्तिक देवों की एक जाति (ग्याया १; ८—पत्र १५१)। ४ भगवान् मुनिमुत्त का शासनाधिष्ठायक यक्ष (संति ८)। ५ शतभिषक नक्षत्र का अधिष्ठाता देव (सुज १०, १२)। ६ एक देव-विमान (वेवेन्द्र १३६)।

७ वृक्ष की एक जाति (पव ४)। ८ अहोरात्र का पनरहवां मुहूर्त (सुज १०, १३; सम ५१)। ९ एक विद्याधरनरपति (पउम ६, ४४; १६, १२)। १० एक श्रेष्ठि-पुत्र (सुपा ५५६)। ११ छन्द-विशेष (विग)। १२ वरुणवर द्वीप का एक अधिष्ठाता देव (जीव

३—पत्र ३४८) । १३ पुं. व. एक आर्य-  
देश (पत्र २७५) । °काइय पुं [°कायिक]  
वरुण लोकपाल के भृत्य-स्थानीय देवों की एक  
जाति (भग ३, ७—पत्र १६६) । °देवकाइय  
पुं [°देवकायिक] वही अर्थ (भग ३, ७) ।  
°पभ पुं [°प्रभ] १ वरुणवर द्वीप का  
एक अविष्ठायक देव (जीव ३—पत्र  
३४८) । २ वरुण लोकपाल का उत्पात-  
पर्वत (ठा १०—पत्र ४८२) । °पभ्वा स्त्री  
[°प्रभा] वरुणप्रभ पर्वत की दक्षिण दिशा  
में स्थित वरुण लोकपाल की एक राजधानी  
(दीव) । °वर पुं [°वर] एक द्वीप का नाम  
(जीव २—पत्र ३४८; मुज्ज १६) ।

वरुणा स्त्री [वरुणा] १ अर्च्य देश की प्राचीन  
राजधानी (पत्र २७५) । २ वरुणप्रभ पर्वत  
की पूर्व दिशा में स्थित वरुण नामक लोक-  
पाल की एक राजधानी (दीव) । ३ एक राज-  
पत्नी (पउम ७, ४४) ।

वरुणी स्त्री [वरुणी] विद्या-विशेष (पउम ७,  
१४०) ।

वरुणोअ } पुं [वरुणोअ] एक समुद्र (ठा  
वरुणोअ } पत्र ४०५; इक; मुज्ज १६) ।

वरुल पुं. व. [वरुल] देश-निशेष (पउम ६८,  
६४) ।

वरुहिणी स्त्री [वरुहिणी] सेना, सैन्य  
(पात्र) ।

वरेइत्य न [दे] फल (दे ७, ४७) ।

वल अक [वल] १ लौटना, वापस आना ।  
२ मुड़ना, टेढ़ा होना; गुजराती में 'वळुवु' ।  
३ उत्पन्न होना । ४ सक, ढकना । ५ जाना,  
गमन करना । ६ सावना । वलइ (हे ४,  
१७६; पड; गा ४४६; वात्वा १५२) ।  
भवि, वलित्सं (महा) । वळ, वळंत, वलय,  
वलाय, वलमाण (हे ४, ४२२; गा २५;  
से ५, ४७; ५, ४२; औप; ठा २, ४; पत्र  
१५७) । कवळ, वलित्तंत (से ४, २६) ।  
संळ, वलित्तण (काल) । हेळ, वलित्तं (गा  
४८४; पि ५७६) । छ, वलित्तव (महा;  
सुमा ६०१) ।

वल सक [आ + रोपय] ऊपर चढ़ाना ।  
वलइ (दे ४, ४७; दे ७, ८६) ।

वल सक [ग्रह] ग्रहण करना । वलइ  
(हे ४, २०६; दे ७, ८६) । वलगिज्ज  
(कुमा) ।

वल पुं [वल] रस्सी आदि को मजबूत करने  
के लिए दिया जाता वल (उत्त २६, २५) ।

वलअंगी स्त्री [दे] वृतिवाली, वाड़वाली (दे  
७, ४३) ।

वलइय वि [वलयित] १ वलय—कंगन की  
तरह गोलाकार किया हुआ, वलय की तरह  
मुड़ा हुआ (पउम २८, १२४; कप्पु) । २ वेष्टित  
(कप्पु) ।

वलंगिआ स्त्री [दे] वाड़वाली (दे ७,  
४३) ।

वलकिअ वि [दे] उत्संगित, उत्संग-स्थित  
(पड १८३) ।

वलक्ख वि [वलक्ख] रवेत, सफेद (पात्र) ।

वलक्ख न [वलाक्ख] आभूषण-विशेष. एक  
तरह का गले में पहनने का गहना (औप) ।

वलग्ग सक [आ + रुह] आरोहण करना,  
चढ़ना । गुजराती में 'वलग्गवु' । वलग्गइ  
(हे ४, २०६; पड; भवि) ।

वलग्ग वि [आरुह] जिसने आरोहण किया  
हो वह, चढ़ा हुआ (पात्र) ।

वलग्गंगणी स्त्री [दे] वृति, वाड़ (दे ७,  
४३) ।

वलग्गिअ देखो वलग्ग = आरुह (कुमा) ।

वलण न [वलन] १ मोड़ना, वक्र करना  
(दे १, ४२) । २ प्रत्यावर्तन, पीछे लौटना  
(से ८, ६; गउड) । ३ बाँक, वक्रता (हे  
४, ४२२) ।

वलण (सौ. मा) देखो वरण (प्राक् ८५; हे  
२६३) ।

वलणा स्त्री [वलना] देखो वरण = वलन  
(गउड) ।

वलत्य वि [दे] पर्यस्त (भवि) ।

वलमय न [दे] शीघ्र, जल्दी; 'वध वलमयं  
तत्त्व' (दे ७, ४८) ।

वलय पुंन [वलय] १ कंकण, कड़ा (औप;  
गा १३३; कप्पु; हे ४, ३५२) । २ पृथिवी-  
वेष्टन, घनवात आदि (ठा २, ४—पत्र  
८६) । ३ वेष्टन, वेठन । ४ बतुल, गोलाकार  
(गउड; कप्पु; ठा ५, १) । ५ नदी आदि के

के बाँक से वेष्टित भू-भाग (सूअ २, २०; अ;  
भा) । ६ माया, प्रपंच (सूअ १, १२, २२;  
सम ७१) । ७ असत्य वचन, मृषा, झूठ (पएह  
१, २—पत्र २६) । ८ बलयकार वृक्षा, नारि-  
केल, नारियल आदि (पएण १; उत्त ३६, ६६;  
सुख ३६, ६६) । °आर, °रअ पुं [°कार,  
°कारक] कंकण बनानेवाला शिल्पी (दे ७, ५४) ।

वलय वि [वलक] मोड़नेवाला; 'छगलग-गल-  
वलया' (पिड ३१४) ।

वलय न [दे] १ क्षेत्र, खेत । २ गृह, घर  
(दे ७, ८४) ।

वलय देखो वल = वल् । °मयग वि [°मृतक]  
१ संयम से अट होकर जिसका मरण हुआ  
हो वह । २ भूख आदि से तड़फता हुआ जो  
मरा हो वह (औप) । °मरण न [°मरण]  
संयम से च्युत होनेवाले का मरण (भग  
२, १) ।

वलयणी स्त्री [दे] वृति, वाड़ (दे ७, ४३) ।

वलयवाहा } स्त्री [दे] १ दीर्घ काष्ठ, जिसपर  
वलयवाहु } ध्वजा आदि बाँधा जाता है  
वह लम्बा काष्ठ; 'संसारियासु वलयवाहानु  
ऊसिएसु सिएसु भयग्गेसु' (एगाया १, ८—पत्र  
१३३) । २ हाथ का एक आभूषण, चूड़ा,  
कड़ा (दे ७, ५२; पात्र) ।

वलया देखो वडवा । °णल पुं [°नल] वड-  
वाग्नि (हे १, १७७; पड) । °मुह न  
[°मुख] १ वडवानल (हे १, २०२; प्राङ;  
पि २४०) । २ पुं. एक वड़ा पाताल-कलश  
(ठा ४, २—पत्र २२६; टी—पत्र २२८;  
सम ७१) ।

वलया स्त्री [दे] वेला, समुद्र-कूल । °मुह न  
[°मुख] वेला का अग्र भाग;  
'ति. वलातामुहुमुक्को, तिक्खुत्तो वलयामुहे ।  
ति सत्तक्खुत्तो जालेणं, सइ छिन्नोदए वहे ॥  
एयारिसं ममं सत्तं, सडं षट्ठियवट्टेणं ।  
इच्छसि गलेण वेत्तुं, अहो ते अहिरीयमा ॥  
(पिड ६३२; ६३३) ।

वलयाइअ वि [वलयायित] जो वलय की  
तरह गोल हुआ हो वह (कुमा) ।

वलवाट्टि [दे] देखो वलयट्टि (दे ६, ६१) ।

वलवा देखो वडवा; 'गोमहिसिवलवपुएणो'  
(पउम २, २; दे ७, ४१; इक; पि २४०) ।



वलवाडी व्री [दे] वृत्ति, वाड़ (दे ७, ४२) ।  
 वलविअ न [दे] शीघ्र, जल्दी (दे ७, ४८) ।  
 वलहि व्री [दे] कर्पास, कपास (दे ७, ३२) ।  
 वलहि } व्री [वलभि, भी] ? गृह-चूडा,  
 वलही } छत्रा, वरामदा । २ महल का  
 अग्रस्य भाग (प्राप्र) । ३ काठियावाड़ का  
 एक प्राचीन नगर, जिसको आजकल 'वळा'  
 कहते हैं (ती १५; सम्मत ११६) ।  
 वलाअ देखो पलाय = परा + अय् । वक् ।  
 'वीसइ वि वलाअंतो' (से ६; ८६) ।  
 वलाअ देखो पलाव = प्रलाप (से ६, ४६) ।  
 वलाअ देखो वल = वल् । मरण देखो  
 वलय-मरण; 'संजमजोग-विसन्ना मरंति जे  
 तं वलायमरणं तु' (पव १५७; ठा २, ४—  
 पत्र ६३) ।  
 वलि व्री [वलि] ? पेट का अग्रयव-विशेष;  
 'उयरवलिमंसेहि' (निर १, १) । २ त्रिवलि,  
 नाभि के ऊपर पेट की तीन रेखाएँ (गा ४२५;  
 भवि) । ३ जरा आदि से होती स्थित  
 चमड़ी (गाया १, १—पत्र ६६) ।  
 वलिअ वि [दे] भुक्त, भक्षित (दे ७, ३५) ।  
 वलिअ वि [वलित] ? मुड़ा हुआ (गा ६;  
 २७०; श्रौप) । २ जिसको बल चढ़ाया गया  
 हो वह (रस्सि आदि) (उत्त २६; २५) ।  
 वलिअं देखो विलिअ = व्यलोक (प्राप्र) ।  
 वलिआ व्री [दे] ज्या, वनुप की डोरी (दे  
 ७, ३४) ।  
 वलिच्छत्त देखो परिच्छन्न (श्रौप) ।  
 वलिजंत देखो वल = वल् ।  
 वलित्त देखो पलित्त (उप ७२८ टी) ।  
 वलिमोडय पुं [वलिमोट्ट] वनस्पति में  
 ग्रन्थि का चक्राकार वेष्टन (परण १—पत्र  
 ४०) ।  
 वलिर वि [वलिर] लौटनेवाला (सुपा  
 ५६) ।  
 वली व्री [वली] देखो वलि (निर १, १) ।  
 वलुण देखो वरण (हे १, २५४) ।  
 वले अ. संवोधन-सूचक अव्यय (प्राक ८०) ।  
 २-३ देखो वले (पड्) ।  
 वल्ल देखो वल = वल् । वल्लइ (घात्वा  
 १५२) ।

वल्ल अक [वल्ल] चलना, हिलना (कुप्र  
 ८४) ।  
 वल्ल पुं [दे] शिशु, बालक (दे ७, ३१) ।  
 वल्ल पुं [दे. वल्ल] अन्न-विशेष, निष्पाव, गुज-  
 राती में 'वाल' (सुपा १३; ६३१; सम्मत  
 ११८; सण) ।  
 वल्लई व्री [वल्लवी] गोपी (दे ७, ३६ टी) ।  
 वल्लई व्री [दे] गो, गैया (दे ७, ३६) ।  
 वल्लई } व्री [वल्लकी] वोणा (पाप्र; दे  
 वल्लकी } ७, ३६ टी; गाया १, १७—पत्र  
 २२६) ।  
 वल्लट्ट वि [दे] पुनरुक्त, फिर से कहा हुआ  
 (पड्) ।  
 वल्लभ देखो वल्लह (गा ६०४) ।  
 वल्लर न [दे. वल्लर] ? वन, गहन (दे ७,  
 ८६; पाप्र; उत्त १६, ८२) । २ क्षेत्र, खेत  
 (दे ७, ८६; परह १, १—पत्र १४) । ३  
 अरण्य-क्षेत्र (पाप्र) । ४ बालुका-युक्त क्षेत्र  
 (गा ८१२) ।  
 वल्लर न [दे] ? अरण्य अटवी । २ निर्जल  
 देश । ३ पुं. महिष, भैंसा; ४ समीर, पवन ।  
 ५ वि. युवा, तल्प (दे ७, ८६) । ६ वेष्टन-  
 शील । ७ वेष्टित नामक आलिंगन-विशेष  
 करने की आवृत्त बाला । व्री. ०री (गा ५३४) ।  
 वल्लरी व्री [वल्लरी] वल्ली, लता (पाप्र;  
 गउड; सुपा ५२६) ।  
 वल्लरी व्री [दे] केश; बाल (दे ७, ३२) ।  
 वल्लव पुं व्री [वल्लव] गोप, अहीर, ग्वाला  
 (पाप्र) । व्री. ०वी (गा ८६) ।  
 वल्लवाय न [दे] क्षेत्र, खेत (दे ६, २६) ।  
 वल्लविअ वि [दे] लाक्षा से रंगा हुआ (पड्) ।  
 वल्लह पुं [वल्लभ] ? दयित, पति, भर्ता, बालम  
 (गउड; कप्पु; गा १२३; हे ४, ३८३) ।  
 २ वि. प्रिय, स्नेह-पात्र; 'अहं जाया वल्लहा  
 अइव पिठणो' (महा; गा ४२; ६७; कुमा  
 पउम १५, ७३; रयण ७६) । ३ राय पुं  
 [राज] ? गुजरात का एक चौलुक्य-वंशीय  
 राजा (कुप्र ४) । २ दक्षिण के कुत्तल देश  
 का एक राजा (कप्पु) ।  
 वल्लहा व्री [वल्लभा] दयिता, पत्नी (गा  
 ७२) ।

वल्लादय न [दे] आच्छादन, ढकने का वस्त्र  
 (दे ७, ४५) ।  
 वल्लाय पुं [दे] ? १ श्येन पक्षी । २ नकुल-  
 न्यौला (दे ७, ८४) ।  
 वल्लि व्री [वल्लि] लता, बेल (कुमा) ।  
 वल्लिर वि [वल्लिर] हिलनेवाला; 'न विरायइ  
 वल्लिरपल्लवा वि वल्लिव्व फलहीणा' (कुप्र  
 ८४) ।  
 वल्ली व्री [वल्ली] लता, बेल (कुमा; पि  
 ३८७) ।  
 वल्ली व्री [दे] केश, बाल (दे ७, ३२) ।  
 वल्लीअ पुं [वाहलीक] ? देश-विशेष (स  
 १३; नाट) । २ वि. बाह्य देश में उत्पन्न,  
 बाह्य देश का (स १३) ।  
 वव सक [वव] वीना; 'जे सत्तवित्तमु  
 ववंति वित्तं' (सत्त ७२) । वक्. ववंत  
 (आत्महि ७) । कवक्. वविजंत (गा  
 ३५८) ।  
 वव सक [वव] देना । ववइ (वव १) ।  
 कर्म. उप्पइ (कुप्र ४१) ।  
 ववइस सक [व्यप + दिश] ? कहना,  
 प्रतिपादन करना । २ व्यवहार करना ।  
 ववइसंति (वमसं ४५२; सूयनि १४१) ।  
 अत्ते अकालमरणस्तभावो  
 वहनिवित्तमो मोहा ।  
 वंभामुग्रपित्तियासण-  
 निवित्तितुल्लं ववइसंति ॥  
 (धावक १६२) ।  
 ववएस पुं [व्यपदेरा] ? कथन, प्रतिपादन ।  
 २ व्यवहार (से ३, २६) । ३ कपट, वहाना,  
 छल (महा) ।  
 ववगस पुं [व्यपगस] नाश (आवम) ।  
 ववगय वि [व्यपगत] ? दूर किया हुआ  
 (सुपा ४१) । २ मृत (परह २, ५—पत्र  
 १४८) । ३ नाश-प्राप्त, नष्ट; 'ववगयविग्घा  
 सिग्घं पत्ता हिअइच्छिअं ठाणं' (एमि ११;  
 श्रौप; कप्पु) ।  
 ववट्टंभ पुं [व्यपट्टंभ] अवलम्बन, सहारा  
 (से ४, ४६) ।  
 ववट्टावण देखो ववट्टावण (राज) ।  
 ववट्टिअ वि [व्यवस्थित] व्यवस्था-प्राप्त  
 (से १२, ५२) ।

वचण न [वचण] वीना (वच १; श्रु ६) ।  
 वचण वीन [दे] कार्पास, तूला, हई  
 'पलही वचणं तूलां ह्वो' (पात्र) । वी, °णी  
 (दे ६, ८२; ७, ३२) ।  
 वचर्थभ पुं [दे] बल, पराक्रम (दे ७,  
 ४६) ।  
 वचस्था वी [व्यवस्था] १ मर्यादा, स्थिति  
 (स १३; कुप्र ११४) । २ प्रक्रिया, रीति ।  
 ३ इंतजाम, प्रवन्च (सुपा ४१) । ४ निर्णय  
 (स १३) । °पत्तय न [°पत्रक] दस्तावेज  
 (स ४१०) ।  
 वचस्थावण न [व्यवस्थापन] व्यवस्था  
 करना; 'जीववचस्थावणादिणा' (धर्मसं  
 ५२०) ।  
 वचस्थावणा न [व्यवस्थापना] ऊपर देखो  
 (धर्मसं ५२०) ।  
 वचस्थिअ वि [व्यवस्थित] व्यवस्था-युक्त  
 (स ४६; ७२७; सुर ७, २०५; सण) ।  
 वचस्थिअ वि [व्यवस्थित] जिसने व्यवस्था  
 की हो वह (दसनि ४, ३५) ।  
 वचदेस देखो वचएस (उवा; स्वप्न १३२) ।  
 वचदेसि वि [व्यपदेशिन्] व्यपदेश करने-  
 वाला (नाट—शकु ६६) ।  
 वचधाण न [व्यवधान] अन्तर, दो पदार्थों  
 के बीच का अन्तर (अग्नि २२२) ।  
 वचरोव सक [व्यप + रोपय्] विनाश  
 करना, मार डालना । वचरोवेसि, वचरोवेजसि,  
 वचरोवेज्जा (उवा) । कर्म, वचरोविज्जसि  
 (उवा) । संक्र. वचरोवित्ता (उवा) ।  
 वचरोवण न [व्यपरोपण] विनाश, हिंसा  
 (सण) ।  
 वचरोविअ वि [व्यपरोपित] विनाशित,  
 मार डाला गया; 'जीविआओ वचरोविआ'  
 (पडि) ।  
 वचस सक [व्यव + सो] १ करना । २  
 करने की इच्छा करना । वचसइ (राय  
 १०८) ।  
 वचस सक [व्यय + सो] १ प्रयत्न करना,  
 चेष्टा करना । २ निर्णय करना । वचसइ  
 (स २०२) । वक्र. वचसंत, वचसमाण  
 (सुपा २३८; स ५६२) । संक्र. वचसिऊण

(सुपा ३३६) । कवक्र. वचसिऊण (पउम  
 ५७, ३६) । हेक्र. वचसिहुं (शौ) (नाट—  
 शकु ७१) ।  
 वचसाय पुं [व्यवसाय] १ निर्णय, निश्चय ।  
 २ अनुष्ठान (ठा ३, ३—पत्र १५१; एदि) ।  
 ३ उद्यम, प्रयत्न. (से ३, १४; सुपा ३५२;  
 स ६८३; हे ४, ३८५; ४२२; कुप्र २६) ।  
 ४ व्यापार, कार्य, काम (श्रौ; राय) ।  
 वचसायसभा वी [व्यवसायसभा] कार्य  
 करने का स्थान, कार्यालय (राय १०४) ।  
 वचसिअ न [दे] बलात्कार (दे ७, ४२) ।  
 वचसिअ वि [व्यवसित] १ उद्यत,  
 वचस्सिअ ) उद्यम-युक्त; 'सेणिआ नाम राया  
 पयासुहे सुहं वचसिआ' (वसु; उत २२,  
 ३०; उव) । २ त्यक्त; 'अवि जीविअ वचसियं  
 न चैव गुरुपरिवो सहिओ' (उव) । ३  
 निश्चयवाला । ४ पराक्रमी (ठा ४, १—पत्र  
 १७६) । ५ न. व्यवसाय, कर्म (णाय १,  
 १—पत्र ५०) । ६ चेटित (स ७५६) । ७  
 उद्यम, प्रयत्न (से ३, २२) ।  
 वचहर सक [व्यव + ह्र] १ व्यापार करना ।  
 २ श्रक. वर्तना, आचरण करना । वचहरई,  
 वचहरण (उत १७, १८; स १०८; विसे  
 २२१२) । वक्र. वचहरंत, वचहरमाण  
 (उत २१, २; ३; भग ८, ८; सुपा १५;  
 ४४६) । हेक्र. वचहरिउं (स १०५) । क.  
 वचहरणिऊण, वचहरियव्व (उप २११ टी;  
 व १; सुपा ५८५) ।  
 वचहरग वि [व्यवहारक] व्यापार करने-  
 वाला, व्यापारी (कुप्र २२४) ।  
 वचहरण न [व्यवहरण] व्यवहार (णाय १,  
 ८—१३५; स ५८५; उप ५३० टी;  
 सुपा ४६७; विसे २२१२) ।  
 वचहरय देखो वचहरग (सुपा ५७८) ।  
 वचहरियव्व देखो वचहर ।  
 वचहार पुं [व्यवहार] १ वर्तन, आचरण  
 (वच १; भग ८, ८; विसे २२१२; ठा ५,  
 २; पव १२६) । २ व्यापार, घन्वा, रोजगार  
 (सुपा ३३४) । ३ नय-विशेष, वस्तु-परीक्षा  
 का एक दृष्टिकोण (विसे २२१२; ठा ७—  
 पत्र ३६०) । ४ मुमुक्षु की प्रवृत्ति-निवृत्ति का  
 कारण-भूत ज्ञान-विशेष (भग ८, ८—पत्र

३८३; वच १; पव १२६; द्र ४६) । ५  
 जैन आगम-ग्रंथ-विशेष (वच १) । ६ दोष के  
 नाशार्थ किया जाता प्रायश्चित्त; 'आयारे  
 वचहारे पन्नती चैव दिद्विवाएय' (दसनि  
 ३) । ७ विवाद, मामला, मुकद्दमा; 'वचहार-  
 वियारणं कुणइ' (पउम १०५, १००, स  
 ४६०; चेइय ५६०; उप ५६७ टी) । ८  
 विवाद-निर्णय, फैसला; चुकावा (उप पृ  
 २८३) । ९ व्यवस्था (सूत्र २, ५, ३) । १०  
 काम, काज (विसे २२१२; २२१४) । ११  
 जीवराशि-विशेष (सक्खा ६) । °व वि  
 [°वन्] व्यवहार-युक्त (द्र ४६) । °रासिय  
 वि [°राशिक] जीवराशि-विशेष में स्थित  
 (सिक्खा ६) ।  
 वचहार पुं [व्यवहार] १ पूर्व-ग्रंथ । २  
 जीतकल्प सूत्र । ३ कल्पसूत्र । ४ मार्ग,  
 रास्ता । ५ आचरण । ६ ईप्सितव्य (वच १) ।  
 वचहारि पुं [व्यवहारिन्] १ ऐरवत क्षेत्र  
 में उत्पन्न एक जिन-देव (सम १५३) । २  
 वि. व्यापारी, वणिक् (मोह ६४; आ १४;  
 सुपा ३३४) । ३ व्यवहार-क्रिया-प्रवर्तक  
 (वच १) ।  
 वचहारिअ वि [व्यावहारिक] व्यवहार-  
 सम्बन्धी (शोध २८१; अणु) ।  
 वचहिअ वि [व्यवहित] व्यवधान-युक्त (अणु;  
 आवम) ।  
 वचहिअ वि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे ७, ४१) ।  
 वचॉल देखो वमाल (सण) ।  
 वचिअ वि [उत्त] बोधा हुआ (उप ७२८ टी;  
 प्रासू ६) ।  
 वचिऊजंत देखो वच ।  
 वचेअ वि [व्यपेत] व्यपगत (सूत्र २, १,  
 ४७) ।  
 वचेक्खा वी [व्यपेक्षा] विशेष अपेक्षा,  
 परवाह (धर्मसं ११६७) ।  
 वचवय पुं [वल्वज] वृण-विशेष; 'मूययवक्क  
 (? व) मयुष्फल—' (पणह २, ३—पत्र  
 १२३; कस २, ३०) ।  
 वचवर वि [वर्वर] १ पामर । २ मूर्ख (कुमा) ।  
 वचव्या° देखो वचवय (कस २, ३०) ।  
 वचव्याड पुं [दे] अर्थ, धन (दे ७, ३६) ।

वन्वीस देखो वन्वीसग, वन्वीसक (पउम ११३, ११)।

वशधि (मा) देखो वसहि = वसति (प्राकृ १०१)।

वश्च (म) देखो वच्छ = वृक्ष (प्राकृ १०१)।

वस अक [ वस् ] १ वास करना, रहना। २ सक. वाचना। वसइ (कप्प; महा)। वूका. वसीय (उत्त १३, १८)। वकू. वसंत, वसमाण (सुर २, २१६; ६, १२०; कुप्र १४; कप्प)। संकू. वसित्ता, वसित्ताणं (आचा; कप्प; पि ५८३)। हेकू. वत्थए वसिउं (कप्प; पि ५७८; राज)। कू. वसिचव्व (ठा ३, ३; सुर १४, ८७; सुपा ४३८)।

वस वि [ वश ] १ आयत्त, अवीन (आचा; से २, ११)। २ पुंन. अवीनता; परतन्त्रता (कुमा; कम्म १, ४४)। ३ प्रभुत्व, स्वामित्व। ४ आज्ञा (कुमा)। ५ बल, सामर्थ्य (णाया १, १७; औप)। ०अ, ०ग वि [ ० ] वशी-भूत, परावीन (पउम ३०, २०; अचु ६१; सुर २, २३१; कुमा; सुपा २५७)। ०टू वि [ ० ] परावीनता से पीड़ित, इन्द्रिय आदि की परवशता के कारण दुःखित (आचा; विपा १, १—पत्र ८; औप)। ०ट्टमरण [ ० ] इन्द्रियादि-परवश की मोत (ठा २, ४—पत्र ६३; भग)। ०वत्ति वि [ ० ] वशीभूत, अवीन (उप १३६ टी; सुपा २३८)। ०इत्त वि [ ० ] अवीन-परतंत्र (धर्मवि ३१)। ०णुग वि [ ० ] वही अर्थ (पउम १४, ११)।

वस पुं [ वृष ] १ धर्म (चेइय ५४१)। २ वैल, वृषभ (स ६५४; कम्म १, ४३)। देखो विस = वृष।

वसइ ली [ वसति ] १ स्थान, आश्रय (कुमा)। २ रात्रि, रात (दे ७, ४१)। ३ गृह, घर (गा १६६)। ४ वास, निवास (हे १, २१४)।

वसंत देखो वस = वस्।

वसंत पुं [ वसन्त ] १ ऋतु-विशेष, चैत्र और वैशाख मास का समय (णाया १, १—पत्र ६४; प्राग्; सुर ३, ३६; कुमा; कप्प; प्राग्

३४; ३२)। २ चैत्र मास (सुज १०, १६)। ०उर न [ ० ] नगर-विशेष (महा)। ०तिलअ पुं [ ० ] हरिवंश में उत्पन्न एक राजा (पउम २२, ६८)। २ न. एक उद्यान, जहाँ भगवान् ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी (पउम ३, १३४)। ०तिलआ ली [ ० ] छन्द-विशेष (पिग)।

वसंभव वि [ वशंवद ] निज को अवीन कहनेवाला (धर्मवि ६)।

वसण न [ वसन् ] १ वल्ल, कपड़ा (प्राग्; सुपा २४४; चेइय ४८२; धर्मवि ६)। २ निवास, रहना (कुप्र ४८)।

वसण पुं [ वृषण ] अण्ड-कोप, पोता (सम १२५; भग; पएह १, ३; विपा १, २; औप; कुप्र ३६५)।

वसण न [ व्यसन् ] १ कट, विपत्ति, दुःख (प्राग्; सुर ३, १६२; महा; प्रासू २३)। २ राजादि-कृत उपद्रव (णाया १, २)। ३ खराब आदत—द्यूत, मद्य-पान आदि छोटी आदत (वृह १)।

वसणि वि [ व्यसनिन् ] छोटी आदतवाला (सुपा ४८८)।

वसभ पुं [ वृषभ ] १ ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-विशेष, वृष राशि (पउम १७, १०८)। २ भगवान् ऋषभदेव (चेइय ५४१)। ३ एक जैन मुनि, जो चतुर्थ बलदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे (पउम २०, १६२)। ४ गीतार्थ मुनि, ज्ञानी साधु (वृह १; ३)। ५ वैल, बलीचंद (उव)। ६ उत्तम, श्रेष्ठ; 'मुणिवसभा' (उव)। ०करण न [ ० ] वह स्थान जहाँ वैल बांधे जाते हैं (आचा २, १०, १४)। ०कखेत्त न [ ० ] स्थान-विशेष, जहाँ पर वर्षा-काल में आचार्य आदि रहते हैं वह स्थान (वव १०; निदू १७)। ०गाम पुं [ ० ] ग्राम-विशेष, कुत्सित देश में नगर-तुल्य गाँव; 'अत्रिय हु वसभगामा कुदेसनगरोवमा सुहविहारा' (वव १०)। ०णुजाय पुं [ ० ] ज्योतिष-प्रसिद्ध दश योगों में प्रथम योग, जिसमें चन्द्र, सूर्य और नक्षत्र वैल के आकार से स्थित होते हैं (सुज १२—पत्र २३३)। देखो उसभ, रिसभ, वसह।

वसभुद्र पुं [ दे ] काक, कौआ (दे ७, ४६)। वसम देखो वसिम (महा)।

वसमाण देखो वस = वस्।

वसल वि [ दे ] दीर्घ, लम्बा (दे ७, ३३)।

वसह पुं [ वृषभ ] वैषावृत्त करनेवाला, मुनि (श्रौष १४०)। २ लक्ष्मण का एक पुत्र (पउम ६, २०)। ३ वैल, साँड़, साँड़ (प्राग्)। ४ कान का छिद्र। ५ औपव-विशेष (प्राग्)। ०इंध पुं [ ० ] शंकर, महादेव (गठ)। ०केउ पुं [ ० ] इक्ष्वाकु-वंश का एक राजा (पउम ५, ७)। ०वाहण पुं [ ० ] ईशान देवलोका का इन्द्र (जं २—पत्र १५७)। २ महादेव, शंकर (वजा ६०)। ०वीही ली [ ० ] शुक ग्रह का एक क्षेत्रभाग (ठा ६—पत्र ४६८)।

वसहि देखो वसइ (हे १, २१४; कुमा; गा ५८२; पि ३८७)।

वसा ली [ वसा ] १ शरीरस्व घातु-विशेष; 'भयवसामस' (पएह १, १—पत्र १४; णाया १, १२)। २ मेद, चरबी (आचा)। ०वसारअ वि [ प्रसारक ] फैलानेवाला (से ६, ४०)।

०वसारअ देखो पसाहय (से ६, ४०)।

०वसाहा ली [ प्रसाधा ] अलंकार, आभूषण (से १, १६)।

वसि देखो वसइ; 'जख न नजइ पहि पहि अडविचसिठायविसेसो' (सुर १, ५२)।

वसिअ वि [ उपित ] १ रहा हुआ, जिसने वास किया हो वह (प्राग्; स २६५; सुपा ४२१; भत्त ११२; वै ७)। २ वासी, पयुं पित; 'अवणेइ स्थणिवसियं निम्महं लोमहत्थेण' (संबोध ६)।

वसिद्ध पुं [ वशिष्ठ ] १ भगवान् पारवनाथ का एक गणवर (ठा ८—पत्र ४२६; सम १३)। २ एक ऋषि (नाट—उत्तर ८२)।

वसिठ पुं [ वशिष्ठ ] द्वीपकुमार देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (इक)।

वसित्त न [ वशित्व ] योग की एक सिद्धि, योग-जन्य एक ऐश्वर्य; 'साहुवसित्तगुणेणं पसमं कुरावि जंतुणो जंति' (कुप्र २७७)।

वसिम न [ दे ] वसिम वसतिवाला स्थान (सुर १, ५२; सुपा १६४; कुप्र २२४; महा)।

वसियव्य देखो वस = वसु ।  
 वसिर वि [वसिर] वास करनेवाला; रहने-  
 वाला (सुपा ६४७; सन्मत २१७) ।  
 वसीक्य वि [वशीकृत] वश में किया हुआ,  
 अधीन किया हुआ (सुपा ५३०; महा) ।  
 वसीकरण न [वशीकरण] वश में करने के  
 लिए किया जाता मन्त्र आदि का प्रयोग  
 (शाया १, १४; प्रासू १४; महा) ।  
 वसीचरणी स्त्री [वशीचरणी] वशीकरण-  
 विद्या (सुर १३, ८१) ।  
 वसीभूअ वि [वशीभूत] जो अधीन हुआ हो  
 वह (उप ६८६ टी) ।  
 वसु न [वसु] १ वन, द्रव्य (आचा; सूत्र १,  
 १३, १८; कुमा) । २ संयम, चारित्र्य (आचा;  
 सूत्र १, १३, १८) । ३ पुं. जिनदेव । ४  
 वीतराग, राग-रहित । ५ संयत, संयमी,  
 साधु (आचा १, ६, २, १) । ६ आठ की  
 संख्या (विवे १४४; पिंग) । ७ वनिष्ठा नक्षत्र  
 का अधिपति देव (ठा २, ३; सुज १०,  
 १२) । ८ एक राजा का नाम (पउम ११,  
 २१; भत्त १०१) । ९ एक चतुर्दश-पूर्वी जैन  
 महर्षि (वित्ते २३३४) । १० एक छन्द का  
 नाम (पिंग) । ११ स्त्री. ईशानेन्द्र की एक  
 पटरानी (इक) । १२ न. लोकान्तिक देवों  
 का एक विमान (इक) । १३ सुवर्ण, सोना  
 (कम्प ६८; भग १५; उत १२, ३६) ।  
 गुत्ता स्त्री [गुत्ता] ईशानेन्द्र की एक  
 पटरानी (ठा ८—पत्र ४२६; इक; शाया  
 २—पत्र २५३) । देव पुं [देव] नववें  
 वासुदेव श्रीकृष्ण और बलदेव का पिता (ठा  
 ६; सम १५२; अंत; उत्र) । नन्द्य पुं  
 [नन्द्य] एक तरह की उत्तम तलवार (सुर  
 २, २२; भवि) । पुज्ज पुं [पूज्य] एक  
 राजा, भगवान् वासुपूज्य का पिता (सम  
 १५१) । वल पुं [वल] इक्ष्वाकु-वंश में  
 उत्पन्न एक राजा (पउम ५, ४) । भाग पुं  
 [भाग] एक व्यक्ति-नामक नाम (महा) ।  
 भागा स्त्री [भागा] ईशानेन्द्र की एक  
 पटरानी (इक) । भूइ पुं [भूति] एक  
 जैन मुनि का नाम (पउम २०, १७६;  
 आवम) । म, मंत वि [मन्त] १

द्रव्यवान्, धनी, श्रीमंत (सूत्र १, १३, ८;  
 १, १५, ११; आचा) । २ संयमी, साधु  
 (सूत्र १, १३, ८; आचा) । मित्ता स्त्री  
 [मित्ता] १ ईशानेन्द्र की एक अग्र-महिषी  
 (ठा ८—पत्र ४२६; शाया २; इक) । सह  
 पुं [शब्द] छन्द-विशेष (पिंग) । हारा  
 स्त्री [हारा] १ आकाश से देव-कृत सुवर्ण-  
 वृष्टि (भग १५; कण ६८; उत १२, ३६;  
 विपा १, १०) । २ एक श्रेष्ठिनी (उप ७२८  
 टी) ।  
 वसुआ } अक [उद् + वा] शुष्क होना,  
 वसुआअ } सूखना । वसुआइ, वसुआअइ  
 (हे ४, ११; ३, १४५; प्राक ७४) । वक.  
 वसुअंत (कुमा) । प्रयो., कवक. वसुआइज्ज-  
 माण (गउड) ।  
 वसुआअ वि [उद्वात] शुष्क (पात्र; से १,  
 २०; गउड; प्राक ७७) ।  
 वसुआइअ वि [उद्वापित] शुष्क किया गया,  
 नुछाया गया (से ६; २५) ।  
 वसुआइज्जमाण देखो वसुआ ।  
 वसुधर पुं [वसुधर] एक जैन मुनि (पउम  
 २०, १६१) ।  
 वसुधरा स्त्री [वसुधरा] १ पृथिवी, धरती  
 (पात्र; धर्मवि ४१; प्रासू १४२) । २ ईशा-  
 नेन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ८—पत्र  
 ४२६; शाया २; इक) । ३ चमरेन्द्र के सोम  
 आदि चारों लोकपालों की एक पटरानी का  
 नाम (ठा ४, १—पत्र २०४; इक) । ४  
 एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६;  
 इक) । ५ नववें चक्रवर्ती राजा की पटरानी  
 (सम १५२) । ६ रावण की एक पत्नी  
 (पउम ७४, १०) । ७ एक श्रेष्ठि-पत्नी (उप  
 ७२८ टी) । वइ पुं [पति] राजा, भूपति  
 (सुपा २८८) ।  
 वसुधा (शौ) देखो वसुहा (स्वप्न ६८) ।  
 वसुपुज्ज देखो वासुपुज्ज; 'वसुपुज्जमहो नेमी  
 पासो वीरो कुमारपव्वइया' (विचार ११५;  
 पंचा १६, १३; १७); 'वसुपुज्जजियो जगु-  
 त्तमो जायो' (पव ३५) ।  
 वसुमई } स्त्री [वसुमती] १ पृथिवी, धरती  
 वसुमई } (उप ७६८ टी; पात्र; सुपा २६०;  
 ४७१) । २ भीम नामक राक्षसेन्द्र की एक

अग्र-महिषी, एक इन्द्राणी (ठा ४, १—पत्र  
 २०४; शाया २—पत्र २५२; इक) । णाह;  
 णाह पुं [नाथ] राजा (उप ७६८ टी;  
 पउम ७४, २६) । भवण न [भवन]  
 भूमि-गृह, भोंवरा (सुख ४, ६) । वइ पुं  
 [पति] राजा (पउम ६६, २) ।  
 वसुल पुं स्त्री [दे. वृपल] १ निष्कुरता-बोधक  
 आमन्त्रण-शब्द; 'होलि ति वा गोलि ति वा  
 वसुलि ति वा' (आचा २, ४, २, ३), 'तहेव  
 होले गोलि ति साणे वा वसुलि ति य'  
 (दस ७, १४) । २ गौरव और कुत्सा-बोधक  
 आमन्त्रण-शब्द; 'होल वसुल गोल णाह दइय  
 पिय रमण' (शाया १, ६—पत्र १६५) ।  
 स्त्री. ली (दस ७, १६; आचा २, ४,  
 २, ३) ।  
 वसुहा स्त्री [वसुधा] पृथिवी, धरती (पात्र;  
 कुमा) । हिव पुं [धिप] राजा (सुपा  
 ८७) ।  
 वसू स्त्री [वसू] ईशानेन्द्र की एक पटरानी  
 (ठा ८—पत्र ४२६; इक; शाया २—पत्र  
 २५३) ।  
 वसेरी स्त्री [दे] गवेपणा, खोज (सुपा  
 ४७३) ।  
 वस्स (शौ) देखो वरिस । वस्सदि (नाट—  
 मृच्छ १५५) ।  
 वस्स वि [वइय] अधीन, आयत्त (वित्ते  
 ८७५) ।  
 वस्सोक न [दे] एक प्रकार की क्रीडा,  
 'अन्नया य वस्सोकेण रमंति राय (?या) एं  
 राणियाउ पोत्तेण वाहिति' (आवक ६३ टी) ।  
 वह सक [वह] १ पहुँचाना । २ धारण  
 करना । ३ ले जाना, होना । ४ अक.  
 चलना; 'परिमलवहलो वहइ पवणो' (कुमा;  
 उव; महा), 'गंगा वहइ पाडल' (सुख २,  
 ४५), वहसि (हे २, १६४) । कर्म. वहिज्ज,  
 वव्भइ, वुम्भइ (कुमा; वात्वा १५१; पि ५४१;  
 हे ४, २४५) वक. वहंत, वहसाण (महा;  
 सुर ३, ११; औप) । कवक. वुज्जमाण (उत्त  
 २३, ६५; ६८) । हेक. वहिउं, वहित्तए,  
 वोहुं (वात्वा १५२; कस; सा १५) । क.  
 वहिअव्व, वोठव्व (वात्वा १५२; प्रवि  
 ३) ।

वह सक [वध्, हन्] मार डालना । वहिइ, वहति (उत्त १८, ३; ५; स ७२८; संवोध ४१) । कर्म. वहिज्जति (कुप २५) । वहु. वहन, वहमाण (पउम २६, ७७; सुपा ६५१; श्रावक १३६) । कथक. वहिज्जंत, वञ्चमाण (पउम ४६, २०; आचा) । संक. वहिऊण (महा) ।

वह सक [व्यथ्] १ पीड़ा करना । २ प्रहार करना । क. वह्येव्व (पएह २, १—पत्र १००) ।

वह (अप) देखो वरिस = वृष् । वहदि (प्राक १२१) ।

वह पुंछी [वध्] घात, हत्या (ज्वा; कुमा; हे ३, १३३; प्राप् १३६; १५३) । स्त्री. ह्दा (सुख १, ३; स २७) । °कारी स्त्री [°करी] विद्या-विशेष (पउम ७, १३७) ।

वह पुं [दे] १ कन्वे पर का अण । २ अण, घाव (दे ७, ३१) ।

वह पुं [वह] १ वृष-स्कन्ध, बैल का कन्वा (विपा १, २—पत्र २७) । २ परीवाह, पानी का प्रवाह (दे १, ५५) ।

वह पुं [व्यथ] लज्जत आदि का प्रहार (सुस १, ५, २, १४; उत्त १, १६) ।

°वह देखो पह = पविन् (से १, ६१; ३, १४; कुमा) ।

वहइअ वि [दे] पर्याप्त (पड १७७) ।

वहण वि [वधक] घातक, हिसक, मार डालनेवाला (उव; स २१३; सुपा ५६४; उप पृ ७०; श्रावक २१२; आ २३) ।

वहण वि [व्यथक] ताड़ना करनेवाला (जं २) ।

वहड पुं [दे] दमनोय बछड़ा (दे ७, ३७) ।

वहडोल पुं [दे] बाल्या, वात-समूह (दे ७, ४२) ।

वहण न [वधन] वध, घात, हत्या; 'अज्जओ द्दज्जीवकायवहणम्मि' (सुपा ५२२; धर्मवि १७; मोह १०१; महा; श्रावक १४४; २३७; उप पृ ३५७; सुपा १८४; पउम ४३, ४६) ।

वहण न [वहन] १ ढोना (धर्मवि ७२) । २ पीत, जहाज, यानपात्र (पात्र; उप ५६६; कुम्मा १५) । ३ शकट आदि वाहन (उत्त

२७, २; सुपा १८२) । ४ वि. वहन करनेवाला (से ३, ६; ती ३) ।

वहण (शौ) देखो पगय = प्रकृत (प्राक ६७) ।

वहण (अप) देखो वसण = वसन (अपि) ।

वहणया स्त्री [वहना] निर्वाह (शाया १, २—पत्र ६०) ।

वहणा स्त्री [वचना] वच, घात, शिक्षा (पएह १, १—पत्र ५) ।

वहणु पुं [व्यघड] एक नरक-स्थान. 'उब्बेयणए विज्जलविमुहे तह विच्छवी वि (१व) हएणू य' (देवेन्द्र २८) ।

वहय देखो वहग = वषक (सुस २, ४, ४; पउम २६, ४७; श्रावक २०८; सण) ।

वहलीअ देखो वहलीय (इक) ।

वहा देखो वह = वय ।

वहाव सक [वाह्य्] वहन कराना । कर्म. वहाविज्जइ (श्रावक २५८ टी) ।

वहाविअ वि [वधित] नरवाया हुआ (जा २४) ।

°वहाविअ देखो पहाविअ (से ६, १) ।

वहिअ वि [व्यथित] पीड़ित (पंचा ५, ४४) ।

वहिअ वि [ऊढ] वहन किया हुआ (धात्वा १५२) ।

वहिअ वि [वधित] जिसका वध किया गया हो वह (श्रावक १७०; पउम ५, १६५; विपा १, ५; उव; ज्ञा २३; २४) ।

वहिअ वि [दे] अवलोकित, निरीक्षित; 'तेलोनकवहियमहियपूइए' (उवा) ।

वहिइअ देखो वहइअ (पड) ।

वहिचर अक [व्यभि + चर्] १ पर-पुरुष या पर-स्त्री से संभोग करना । २ सक. नियम-भंग करना । वहु. वहिचरंत (स ७११) ।

वहिचार पुं [व्यभिचार] १ पर-स्त्री या पर-पुरुष से संभोग (स ७११) । २ व्यायशास्त्र-प्रसिद्ध एक हेतु-दोष (धर्मसं ६३) ।

वहिज्जंत देखो वह = वध् ।

वहिया स्त्री [दे] वही, हिताव लिखने की किताव (सम्मत्त १४२; सुपा ३८५; ३८६; ३८७; ३६१) ।

वहियाली देखो वाहियाली; पुक्कज्जाण-तडिदियवहियालि नेइ तं नियइ' (धर्मवि ४) ।

वहिलग पुं [दे. वहिलक] ऊँट, बैल आदि पशु (राज) ।

वहिल्ल वि [दे] शीघ्र, शीघ्रता-युक्त; पुजराती में 'वहेलो' (हे ४, ४२२; कुमा; वज्जा १२८) ।

वहु पुंछी [दे] चिचिडा, मन्त्र-द्रव्य-विशेष (दे ७, ३१) ।

वहुं देखो वहू (हे १, ४; पट; प्राप्र) ।

वहुचारिणी स्त्री [दे] नयोडा, दुग्धहिन (दे ७, ५०) ।

वहुण्णा; स्त्री [दे] ज्येष्ठ-भार्या, पति के बड़े नाई की बहू (दे ७, ४१) ।

वहुमास पुं [दे] रमण-विशेष, क्रीडा-विशेष, नित्तमें खेलता हुआ पति नयोडा के घर से बाहर नहीं निकलता है (दे ७, ४६) ।

वहुरा स्त्री [दे] शिवा, सिवारिन (दे ७, ४०) ।

वहुलिआ (अप) स्त्री [वधुटिका] अल वय वाली स्त्री, बहुरिया (विग) ।

वहुव्या स्त्री [दे] छोटी सास (दे ७, ४०) ।

वहुहाडिणी स्त्री [दे] एक स्त्री के रहते हुए व्याही जाती दूसरी स्त्री (दे ७, ५०; पड) ।

वहू स्त्री [वधू] बहू, भार्या, नारी (स्वप्न ४२; पात्र; हे १, ४) ।

वहोळ पुं [दे] छोटा जल-प्रवाह, पुजराती में 'वहेळो' (दे ७, ३६) ।

वहोळिया स्त्री [दे] देखो वहोळ (चउपपन्न० पत्र २१४) ।

वा सक [वा] गति करना, चलना । वइ (से ६, ५२; ना ५४३; कुमा) ।

वा अक [वाँ, म्लें] सूखना । वाइ (से ६, ५२; हे ४, १८) ।

वा सक [व्ये] बुनना । क. वाइम; 'गधिम-पुरिमवेडिमवाइमसंवाइमं छेज्ज' (दसनि २) ।

वा अ [वा] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ विकल्प, अथवा, या (आचा; कुमा) । २ समुच्चय, और, तथा (उत्त ८, १२; सुख ८, १२) । ३ अपि भी (कुमा; कप्प; सुख ५, २२) । ४ अवधारण, निश्चय (जा ८) । ५ सादृश्य, समानता (विसे १८६४) । ६

उपमा; 'कल्पदुर्म तण्णोव काणकवड्ढेण कामवेणु' वा' (हिं १७; सूत्र १, ४; २, १५; सुख २, ६; वव १) । ७ पाद-पुत्ति (उत्त २८, २८) ।

वाअड पुं [दे] शुक, तोता (पड्) ।

वाअड देखो वावड = व्यापृत, 'रइवाअड उरंतं पिअपि पुत्तं सवइ माअ्रा' (गा ४००) ।

वाइ वि [वादिन्] १ बोलनेवाला, वक्ता (आचा; भग; उव; ठा ४, ४) । २ वाद-कर्ता, शास्त्रार्थ में पूर्वपक्ष का प्रतिपादन करनेवाला (सम १०२; विसे १७२१; कुप्र ४४०; चेइय १२८, सम्मत १४१; आ ६) । ३ दार्शनिक, तीर्थिक, इतर वर्ग का अनुयायी (ठा ४, ४) ।

वाइ वि [वाचिन्] वाचक, अभिवाचक, कहने-वाला (विसे ८७४) ।

वाइ देखो वाजि (राज) ।

वाइअ वि [वाचिक] वचन-संबन्धी (श्रौप; आ २४ पडि) ।

वाइअ वि [वाचित] १ पाठित, पढ़ाया हुआ (उत्त २७, १४; विसे २३५८) । २ पढ़ा हुआ; 'नाममि वाइए तर्थ' (सुपा २७०), 'अलाहि कि वाइएण लेहेण' (हे २, १८६) ।

वाइअ वि [वातिक] १ वात से उत्पन्न, वायु-जन्य (रोग आदि) (भग; गीया १, १—पत्र ५०; तंदु १६) । २ वायु से फूला हुआ, वात-रोगवाला (विसे २५७६ टी; पव ६१) । ३ उत्कर्षवाला; 'सपरक्कमराउलवा-इएण सीसे पलीविए नियए' (उव), 'चितइ सूरु एसो निवमत्तो वाइउव्व दुट्टमणो' (धर्मवि ७६) । ४ पुं. नपुंसक का एक भेद (पुप्फ १२७; धर्म ३) ।

वाइअ वि [वादित] १ वजाया हुआ (गा ५५७; कुमा २, ८; ६६; ७०) । २ वन्दित, अभिवादित; चलणेषु निवडिऊणं वाइआ वंसणा' (स २६०) ।

वाइअ न [वाद्य] १ वाजा, वादित्र (कप्प) । २ वाजा वजाने की कला (सम ८३; श्रौप) ।

वाइअ वि [वात] बहा हुआ, चला हुआ; 'मुचकुंदकुडयसंदियरयगन्निणवाइयसमीरो' (सुर २, ७६) ।

वाइंगण न [दे] वैगन, वृत्ताक, भंडा (उप ५६७ टी; दे ७; २६) ।

वाइंगणी } स्त्री [दे] वैगन का गाछ,  
वाइंगिणी } वृत्ताकी (राज; पएण १७—  
पत्र ५२७) ।

वाइगा [दे] देखो वाइया (उप १०३१ टी) ।

वाइजंत देखो वाए = वाचय् ।

वाइजंत देखो वाए = वादय् ।

वाइत्त न [वादित्र] वाद्य, वाजा (कुप्र ११०; भवि) ।

वाइद्ध वि [व्याविद्ध] विपर्यय से उपन्यस्त, उलट-पुलट रखा हुआ (विसे ८५३) ।

वाइद्ध वि [व्यादिग्ध] १ उपदिग्ध, उपलिप्त । २ वक्र, टेढ़ा (भग १६, ४—पत्र ७०४) ।

वाइम देखो वा = व्ये ।

वाइयव्व देखो वाय = वादय् ।

वाइकरण देखो वाजीकरण (राज) ।

वाउ पुं [वायु] १ पवन, वात (कुमा) । २ वायु-शरीरवाला जीव (अणु; जो २; दं १३) । ३ मुहूर्त्त-विशेष (सम ५१) । ४ सौवर्मन्त्र के अथ-सैन्य का अधिपति देव (ठा ५, १—पत्र ३०२) । ५ नक्षत्र-देव-विशेष, स्वाति-नक्षत्र का अधिपति देवता (ठा २, ३—पत्र ७७; सुज १०, १२ टी) ।

°आय पुं [°काय] १ प्रचण्ड पवन (ठा ३, ३—पत्र १४१) । २ वायु शरीरवाला जीव (भग) । °काइय पुं [°कायिक] वायु शरीरवाला जीव (ठा ३, १—पत्र १२३; पि ३५५) । °काय देखो आय (जी ७; पि ३५५) । °कुमार पुं [°कुमार] १ एक देव-जाति, भवनपति देवों की एक अवान्तर जाति (भग) । २ हनुमान का पिता (पउम १६, २) । °कलिया स्त्री [°उत्कलिणा] वायु-विशेष, नीचे बहनेवाला वायु (पएण १—पत्र २६) । °काइय देखो काइय (भग) । °काय देखो आय (राज) । °त्तरवडिसग पुंन [°उत्तरावतंसक] एक देव-विमान (सम १०) । °पवेस पुं [°प्रवेश] गवाक्ष, भरोखा, वातायन (श्रोवभा ५८) । °पइट्टाण वि [°प्रतिष्ठान] वायु के आवार से रहनेवाला (भग) । °भूइ पुं [°भूति] भगवान् महावीर का एक गणधर—मुख्य शिष्य (कप्प) ।

वाउ पुं [दे] इक्षु, ऊख (दे ७, ५३) ।

°वाउड वि [प्रावृत] १ आच्छादित, ढका हुआ (भग २, १; पव ६१) । न. कपडा, वस्त्र (ठा ५, १—पत्र २६६) ।

वाउत्त पुं [दे] १ विट । २ जार, उपपति (दे ७, ८८) ।

वाउप्पइया स्त्री [दे. वातोत्पत्तिका] भुज-परिसर्प की एक जाति, हाथ से चलनेवाले जन्तु की एक जाति; 'एउलसरडजाहगमुगु सखाडहिलवाउप्पि (°णइ) यधीरोलियसिरीसि-वणो य' (पएह १, १—पत्र ८) ।

वाउभाम पुं [वातोद्भाम] अनवस्थित पवन, 'वाउभामा (°वामा) मे वाउकलिया' (पएण १—पत्र २६) ।

वाउय वि [व्यापृत] किसी कार्य में लगा हुआ (गया १, ८—पत्र १४६; श्रौप) ।

वाउरा स्त्री [वागुरा] मृग-वन्धन, पशु फँसाने का जाल, फन्दा (पउम ३३, ६७; हेका ३१; गा ६५७) । देखो वगुरा ।

वाउरिय वि [वागुरिक] जाल में फँसाने का काम करनेवाला, व्याघ (पएह १, १; विपा १, ५—पत्र ६४) ।

वाउल वि [व्याकुल] १ घबड़ाया हुआ (उव; उप प २२०; कव ३४; हे २, ६६) । २ पुं. क्षोभ (पएह १, ३—पत्र ४४) । °ीहूअ वि [°ीभूत] व्याकुल बना हुआ (उप २२० टी) ।

वाउल वि [वातूल] १ वात-रोगी, उन्मत्त । २ पुं. वातसमूह (हे १, १२१; प्राक ३०) ।

वाउलग्ग न [दे] सेवा, भक्ति; 'निच्चं चिय वाउलग्गं कुणंति' (राज) ।

वाउलग्ग न [व्यापरण] व्यावृत्त-क्रिया, व्यापार (वव १) ।

वाउलग्गा स्त्री [व्याकुलना] व्याकुल करना (वव ४) ।

वाउलिअ वि [व्याकुलित] १ व्याकुल बना हुआ (सण) । २ विलोलित, क्षोभ-प्राप्त (पएह १, ३—पत्र ४५) ।

वाउलिआ स्त्री [दे] छोटी लार्ई (गा ६२६) ।

वाउल्ल देखो वाउल = व्याकुल (हे २, ६६; पड्) ।

वाउल्ल वि [दे. वातूल] वाचाट, प्रलाप-शील, ब्रकवादी (दे ७, ५६; पात्र; पङ्)

वाउल्लअ पुंन [दे] पूतला, गुजराती में 'वावकु'; 'आलिहियमितिवाउल्लओ व्व ए परम्मुहं ठाइ' (गा २१७), 'आलिहियमिति-वाउल्लय व न परम्मुहं ठाइ' (वञा १४)।

वाउल्लआ } ली [दे] देखो वाउल्लया,  
वाउल्ली } वाउल्ली; 'आलिहियमितिवाउ-  
ल्लय व्व ए संमुहं ठाइ' (गा २१७ अ; दे ६,  
६२)।

वाऊल्ल देखो वाउल्ल = वातूल; 'अभिवायण-  
वाऊलो हसिजए नयरलोएण' (धर्मवि १११;  
प्राकृ ३०)।

वाऊल्ल देखो वाउल्ल = व्याकुल (प्राकृ ३०)।

वाऊल्लिअ वि [वातूलित] १ वातूल बना  
हुआ। २ नास्तिक (दसन १, ६६)।

वाए सक [वाद्य] वजाना। वाएइ (महा)।  
वकृ. वाएंत (महा)। कवकृ. वाइजंत (कुप्र  
१६)। हेकृ. वाइउं (महा)।

वाए सक [वाच्य] १ पढ़ाना। २ पढ़ना।  
वाएइ; वाएति (भग; कप्प)। कवकृ. वाइ-  
जंत (सुपा ३३८; कुप्र १६)।

वाएरिअ वि [वातेरित] पवन-प्रेरित, हवा से  
हिलाया या कंपाया हुआ (गा १७६)।

वाएसरी ली [वागीश्वरी] सरस्वती देवी;  
'वाएसरी पुव्यवग्गहत्या' (पडि; सम्मत  
२१५)।

वाओलि } ली [वातालि, ली] पवन-  
वाओली } समूह; 'कि अयलो चालिजइ  
पयंडवाउ (? ओ) लिसएहिवि' (धर्मवि २७;  
गउड; राया १, १—पत्र ६३)।

वाक } देखो वकृ = वल्क (श्रौप; विसे ६७;  
वाग } विपा १, ६—पत्र ६६)।

वागड पुं [वागड] गुजरात का एक प्रान्त,  
जो आक्कल भी 'वागड' नाम से ही प्रसिद्ध  
है (कुप्र ६)।

वागडिअ वि [व्याकृत] प्रकट किया हुआ  
(वव १)।

वागर सक [व्या + कृ] प्रतिपादन करना,  
कहना। वागरेड, वागरेजा (कप्प; पि ५०६)।  
वकृ. वागरमाण, वागरेमाण (सुर ७, ४१;  
सुपा ५११; श्रौप)। संकृ. वागरित्ता (सम

७२)। हेकृ. वागरिउं, वागरित्ताए (कुप्र  
२३८; उवा)।

वागरण न [व्याकरण] १ कथन, प्रतिपादन,  
उपदेश (विसे ५५०; कुप्र २; परह १, १  
टी)। २ निर्वचन, उत्तर (श्रौप; उवा; कप्प)।  
३ शब्दशास्त्र (धर्मवि ३८; मोह २)।

वागरणि वि [व्याकरणिन्] प्रतिपादन  
करनेवाला (सम्म २)।

वागरणी ली [व्याकरणी] भापा का एक  
भेद, प्रश्न के उत्तर की भापा, उत्तर रूप  
वचन (ठा ४, १—पत्र १८३)।

वागरिय वि [व्याकृत] उक्त, कथित (उवा;  
अंत ६; उप १४२ टी; पव ७३ टी)। देखो  
वायड = व्याकृत।

वागल न [वल्कल] वृक्ष की छाल (राया  
१, १६—पत्र २१३)।

वागल वि [वाल्कल] वृक्ष की त्वचा—छाल  
से बना हुआ; 'वागलवत्यनियत्वे' (भग ११,  
६—पत्र ५१६)।

वागली ली [दे] वल्ली-विशेष (परएण १—  
पत्र ३३)।

वागिल्ल वि [वागिमन्] बहु-भापी, वाचाल  
(वव ७)।

वागुर पुं [वागुरा] मृग-वन्धन, जाल, फन्दा;  
'रे रे रएह वागुरे' (मोह ७६)।

वागुरि } वि [वागुरिन्, रिक्] देखो  
वागुरिय } वाउरिय; गुजराती में 'वाघरी';  
'सकयपसयरोहिण य साहिति वागुरा (?रो)  
ए' (परह १, २—पत्र २६; सुप्र २, २,  
३६; विपा १, ८—पत्र ८३)।

वाघाइय वि [व्याघातिक] व्याघात से उत्पन्न  
(जं ७—पत्र ५३१)।

वाघाइम वि [व्याघातिम] व्याघात से होने-  
वाला (सुज १८—पत्र २६५)। २ न.  
मरण-विशेष—सिंह, दावानल आदि से होने  
वाली मौत (श्रौप)।

वाघाय पुं [व्याघात] १ स्वल्ना (सुज  
१८)। २ विनाश (उव ६७६)। ३ प्रतिबन्ध,  
रुकावट (भग; श्रौघभा १८)। ४ सिंह,  
दावानल आदि से अभिभव (श्रौप)।

वाघारिय वि [व्याघारित] प्रलम्ब, लम्बा  
(पंचा १८, १८; पव ६७)।

वाघुष्णिग्य वि [व्याघुष्णित] दोलायमान,  
डोलता (राया १, १—पत्र ३१)।

वाघेल पुं [दे] एक कथिय-वंश (ती २६)।

वाच देखो वाय = वाचय। कवकृ. वाचीअमाण  
(नाट—मालवि ६१)। संकृ. वाचिऊण  
(हम्मोर १७)।

वाचय देखो वायग = वाचक (द्रव्य ४६)।

वाचिय देखो वाइअ = वाचित (स ६२१)।

वाज देखो वाय = व्याज (कुप्र २०१)।

वाजि पुं [वाजिन्] अश्व, घोड़ा (विपा १,  
७)।

वाजीकरण न [वाजीकरण] १ वीर्य-वर्धक  
श्रौषध-विशेष। २ उसका प्रतिपादक शास्त्र;  
आयुर्वेद का एक अंग (विपा १, ७—पत्र  
७५)।

वाड पुं [वाट] १ वाड, कंटक आदि से की  
जाती गृहादि की परिधि (उत्त २२; १४; माल  
१६५)। २ वाड़ा, वाडवाली जगह; वृत्तिवाला  
स्थान; 'निव्वाणमहावाडं साहसिं संपावेइ'  
(उवा; गा २२७; दे ७, ५३ टि; गउड);  
'अंते सो साहूणं गोवाडनिरोहणं करेऊण'  
(विचार ५०६)। ३ वृत्ति आदि से परिधि  
गृह-समूह, स्थान, मुहल्ला (उत्त ३०, १८);  
'अहो गणिआवाडस्स सत्सिरीअया' (चार  
७६)।

वाडंतरा ली [दे] कुदौर, भोंपड़ा या भोंपड़ी  
(दे ७, ५८)।

वाडग देखो वाड (पिड—३३४; विपा १,  
४—पत्र ५५; उव पृ २८६)।

वाडण देखो पाडण; 'परदोहवट्टवाडणवंदग-  
हत्तलएणपमुहाइ' (कुप्र ११३)।

वाडव पुं [वाडव] बड़वानल, समुद्र-स्थित  
अग्नि (सण)।

वाडहाणग पुंन [वाटधानक] १ एक छोटा  
गाँव। २ वि. उस गाँव का निवासी; 'ताहें  
तेण वाडहाणगा हरिणसा विज्जाइया कया'  
(सुख ६, १; महा)।

वाडि° देखो वाडी = वाटी (गा ८; राया १;  
७—पत्र ११६)।

वाडिआ ली [वाटिका] बगीचा, उद्यान,  
'सणवाडिआ' (गा ६; चार ५६; दे ७, ३५;  
रंसा)।

वाडिम पुं [दे] पशु-विशेष, गरडक, गंडा (दे ७, ५७) ।

वाडिल्ल पुं [दे] कृमि, कीट (दे ७, ५६) ।

वाडी स्त्री [दे] वृत्ति, वाड; 'धरवारे कारिया कंटएहि वाडी' (कुप्र २६; दे ७, ४३; ५८; पङ्.) ।

वाडी स्त्री [वाटी] वगीचा, उद्यान (धर्मसं ४१) ।

वाडि } पुं [दे] वणिक-सहाय, वैश्य-मित्र  
वाडिअ } (दे ७, ५३) ।

वाण सक [वि + नम्] विशेष नमना—  
नत होना । वाणइ (?) (वात्वा १५२) ।

वाण वि [वान] वन में उत्पन्न, वन-संवन्धी (श्रौप; सम १०३) । °पत्थ, °त्पत्थ पुं [°प्रस्थ] वन में रहनेवाला तापस, तृतीय आश्रम में स्थित पुरुष (श्रौप; उप ३७७) । °मंत, °मंतर, °वंतर पुं स्त्री [°व्यन्तर] देवों की एक जाति (भग; ठा २, २; सुर १-१३७; श्रौप; जी २४; महा; पि २५१) । स्त्री. °री (परण १७—पत्र ४६६; जीव २) । °वासिआ स्त्री [°वासिका] छन्द-विशेष (अजि ३३) ।

°वाण देखो पाण = पान । °वत्त न [°पात्र] पीने का प्याला (से १, १८) ।

वाणय पुं [दे] बलयकार, कंकण बनानेवाला शिल्पी (दे ७, ५४) ।

वाणर पुंन [वानर] १ वन्दर, कपि, मकंद (परह १, १; पात्र) । २ विद्याधर मनुष्यों का एक वंश । ३ वानर-वंश में उत्पन्न मनुष्य (पउम ६, १) । °उरी स्त्री [°पुरी] किष्किन्वा नामक एक भारतीय प्राचीन नगरी (से १४, ५०) । °केड पुं [°केतु] वानर-वंश का कोई भी राजा (पउम ८, २३५) । °द्वीप पुं [°द्वीप] एक द्वीप (पउम ६, ३४) । °द्वय पुं [°ध्वज] हनुमान (पउम ५३, ४३) । °वइ पुं [°पति] सुग्रीव, रामचन्द्र का एक सेनापति (से २, ४१; ३, ५२) । देखो वानर ।

वाणरिंद पुं [वानरेन्द्र] वानर-वंशीय पुरुषों का राजा, वाली (पउम ६, ४०) ।

वाणवाल पुं [दे] इन्द्र, पुरन्दर (दे ७, ६०) ।

वाणहा देखो पाणहा, वाहणा = उषानह, (पि १४१) ।

वाणा देखो वायणा = वाचना । °यरिअ पुं [°चार्य] अध्यापन करनेवाला साधु, शिक्षक, 'एसो च्चिय ता कीरउ वाणायरिओ, तओ गुरु मणइ' (उप १४२ टी) ।

वाणारसी स्त्री [वाराणसी] भारतवर्ष की एक प्राचीन नगरी, जो आज कल 'बनारस' नाम से प्रसिद्ध है (हे २, ११६; णाया १, ४; उवा; इक; उव; धर्मवि ५; पि ३८५) ।

वाणि देखो वणि = वणिज् (भवि) । °उत्त, °पुत्त पुं [°पुत्र] वैश्य-कुमार, वनिया का लड़का (कुप्र ३६; ८८; २२१; ४०४; सिरि ३८४; धर्मवि. १०४) ।

वाणि स्त्री [वाणि] देखो वाणी (संति ४) ।

वाणिअ पुं [वाणिज] १ वनिया, व्यापारी, वैश्य (था १२; सुर १, २४८; १३, २६; नाट—मृच्छ ५५; वसु; सिरि ४०) । २ एक गाँव का नाम (उवा; श्रंत; विपा १, २) ।

वाणिअ (अप) देखो वाणिज (सण) ।

°वाणिअ देखो पाणिअ = पानीय (गा ६८२; सिरि ४०; सुवा २२६) ।

वाणिअय पुं [वाणिजक] वनिया, वैश्य, व्यापारी (पात्र; काप्र ८६३; गा ६५१; उव; सुवा २२६; २७५; प्रासू १८१) ।

वाणिज्ज न [वाणिज्य] १ व्यापार, वैपार (सुवा ३४३; पडि) । २ एक जैन मुनि-कुल का नाम (कप्प) ।

वाणिज्जा स्त्री [वाणिज्या] व्यापार; 'अहिच्छत्तं नगरं वाणिज्जाए गमित्तए' (णाया १, १५) ।

वाणिज्जिय वि [वाणिजिक] वाणिज्य-कर्ता, व्यापारी (भवि) ।

वाणी स्त्री [वाणी] १ वचन, वाक्य (पात्र) । २ वाग्देवता, सरस्वती देवी (कुमा; संति ४) । ३ छन्द-विशेष (पिन) ।

°वाणीअ देखो पाणीअ (काप्र ६२५) ।

वाणीर पुं [दे] जम्बू वृक्ष, जामुन का पेड़ (दे ७, ५६) ।

वाणीर पुं [वानीर] वैतस-वृक्ष, वैत का पेड़ (पात्र; गा ५६६) ।

वाणुं जुअ पुं [दे] वणिक, वैश्य; 'एसो हला नवल्लो वीसइ वाणुं जुओ कोवि' (उप ७२८ टी) ।

वात देखो वाय = वात (ठा २, ४—पत्र ८६) ।

वातिक } देखो वाइअ = वातिक (परह १,  
वातिय } ३—पत्र ५४; श्रौव. ७२२) ।

वाद देखो वाय = वाद (राज) ।

वादि देखो वाइ = वादिन् (उवा) ।

वानर देखो वाणर (विपा १, २—पत्र ३६; विसे ८६३; सुवा ६१८), 'पुव्वभववानराणि व ताई विलसंति सिच्छाए' (धर्मवि १३१) ।

वापंफ देखो वावंफ । वापंफइ (पङ्.) ।

वापिद् (शौ) देखो वावड = व्यापृत (नाट—वेणी ६७) ।

वावाहा स्त्री [व्यावाधा] विशेष पीड़ा (णाया १, ४; चैइय ३५५) ।

वाम सक [वमय्] वमन कराना, कै कराना । वामेइ, वामेज्ज (भग; पिड ६४६) । संकृ. वामेत्ता (भग; उवा) ।

वाम वि [दे] १ मृत (दे ७, ४७) । २ आक्रान्त (पङ्.) ।

वाम वि [वाम] १ सव्य, बाँया (ठा ४, २—पत्र २१६; कुमा; सुर ४, ५; गजड) । २ प्रतिकूल, अननुकूल (पात्र; परह १, २—पत्र २८; गजड ८८०; ६६४; कुमा) । ३ सुन्दर, मनोहर; 'वामलोअरा' (पात्र) । ४ न. सव्य पक्ष; 'वामत्यो' (पउम ५५, ३१) । ५ बाँया शरीर (गा ३०३) । °लोअणा स्त्री [°लोचना] सुंदर नेत्रवाली स्त्री, रमणी (पात्र) । °लोअवादि, °लोगवादि पुं [°लोकवादिन्] दार्शनिक-विशेष, जगत् को अशद् माननेवाले मत का प्रतिपादक दार्शनिक (परह १, २—पत्र २८) । °वट्ट वि [°वर्त] प्रतिकूल आचरण करनेवाला (वृह १) । °वत्त वि [°वर्त] वही अर्थ (ठा ४, २—पत्र २१६) ।

वाम पुं [व्याम] परिमाण-विशेष, नीचे फैलाए हुए दोनों हाथों के बीच का अन्तराल (पत्र २१२; श्रौप) ।

वामण पुंन [वामन] १ संस्थान-विशेष, शरीर का एक तरह का आकार, जिसमें



हाय, पैर आदि अयव छोटे हों और छाती, पेट आदि पूर्ण या उन्नत हों वह शरीर (ठा ६—पत्र ३५७; सम १४६; कम्म १, ४०)।  
२ वि. उक्त आकार के शरीरवाला, हल्क, खवं (पत्र ११०; से २, ६; पात्र)। क्री. णी (श्रीप; राया १, १—पत्र ३७)। ३ पुं. श्रीकृष्ण का एक अवतार (से २, ६)। ४ देव-विशेष, एक यक्ष-देवता (सिरि ६६७)।  
५ न. कर्म-विशेष, जिसके उदय से वामन शरीर की प्राप्ति हो वह कर्म (कम्म १, ४०)। थली क्री [स्थली] देश-विशेष (ती १५)।

वामणिअ वि [दे] नष्ट वस्तु—पलायित को फिर से ग्रहण करनेवाला (दे ७, ५६)।

वामणिआ क्री [दे] दीर्घ काष्ठ की वाड (दे ७, ५८)।

वामहण न [व्यामर्दन] एक तरह का व्यायाम, हाथ आदि अंगों का एक दूसरे से मोड़ना (राया १, १—पत्र १६; कप्प; श्रीप)।

वामरि पुं [दे] सिंह, मृगेन्द्र (दे ७, ५४)।

वामलूर पुं [वामलूर] बल्मीक, दोमक (पात्र, गडड)।

वामा क्री [वामा] भगवान् पार्श्वनाथजी की माता का नाम (सम १५१)।

वामिस्स देखो वामीस (पउम ६३, ३६)।

वामी क्री [दे] क्री, महिला (दे ७, ५३)।

वामीस वि [व्यामिश्र] मिश्रित, युक्त, सहित (पउम ७२, ४, तंदु ४४)।

वामीसिय वि [व्यामिश्रित] ऊपर देखो (भवि)।

वामुत्तय वि [व्यामुत्तक] १ परिहित, पहना हुआ। २ प्रलम्बित, लटका हुआ (श्रीप)।

वामूढ वि [व्यामूढ] विमूढ़, भ्रान्त (सुर ६, १२६; १२, १४३; सुपा ७०)।

वामोह पुं [व्यामोह] मूढ़ता, भ्रान्ति (उप ४ ३२६; सुपा ६५; भवि)।

वामोहण वि [व्यामोहन] भ्रान्ति-जनक (भवि)।

वाय सक् [वाचय्] १ पढ़ना। २ पढ़ाना। वाएइ, वाएसि (कुप्र १६६); 'सावक्का सुयजणणी पासया गहिय वायए लेह' (धर्मवि ४७), 'सुत्तं वाए उवक्काओ' (संघोष २५)। वक्क वायंत (सुपा २२३)। संकृ. वाइऊण (कुप्र १६६)। कृ. वायणिज्ज (ठा ३, ४)।

वाय सक् [वा] बहना, गति करना, चलना। वायंति (भग ५, २)। वक्क वायंत (पिड ८२; सुर ३, ४०; सुपा ४५०; दस ५, १०८)।

वाय अक् [वै, म्लै] सूखना। वाअइ (संक्षि ३६; प्राप्र)। वक्क वायंत (गडड ११६५)।

वाय सक् [वादय्] बजाना। वक्क वायंत, वायमाण (सुपा २६३; ४३२)। कृ. वाइयव्व (स ३१४)।

वाय वि [वान] शुष्क, सूखा, म्लान (गडड; से ५, ५७; पात्र; प्राप्र; कुमा)।

वाय पुं [दे] १ वनस्पति-विशेष (सुत्र २, ३, १६)। २ न. गन्व (दे ७, ५३)।

वाय पुं [त्रात] समूह, संघ (श्रा २३; भवि)।

वाय वि [व्यात्] संवरण करनेवाला (श्रा २३)।

वाय वि [व्यागस्] प्रकृष्ट अपराधी (श्रा २३)।

वाय पुं [वात्] १ पवन, वायु। २ कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा (श्रा २३)।

वाय वि [व्याप] प्रकृष्ट विस्तारवाला (श्रा २३)।

वाय पुं [वाक्] ऋग्वेद आदि वाक्य (श्रा २३)।

वाय पुं [व्याय] १ गति, चाल। २ पवन, वायु। ३ पत्नी का आगमन। ४ विशिष्ट लाभ (श्रा २३)।

वाय पुं [व्याच] वंचन, ठगाई (श्रा २३)।

वाय पुं [वाज] १ पक्ष, पैल। २ मुनि, ऋषि। ३ शब्द, आवाज। ४ वेग। ५ न. घृत, घी। ६ पानी, जल। ७ यज्ञ का वाक्य (श्रा २३)।

वाय न [वाच] शुक-समूह (श्रा २३)।

वाय वि [वाज्] १ फेंकनेवाला। २ नायक (श्रा २३)।

वाय पुं [व्याज] १ कपड़, माया। २ बहाना, छल। ३ विशिष्ट गति (श्रा २३)।  
वाय देखो वांग = बल्क (विपा १, ६—पत्र ६६)।

वाय पुं [त्राय] विवाह, शादी (श्रा २३)।

वाय पुं [व्यात] विशिष्ट गमन (श्रा २३)।

वाय पुं [वाप] १ वपन, बोना। २ क्षेत्र, खेत (श्रा २३)।

वाय पुं [वाय] १ गमन, गति। २ सूँघना। ३ जानना, ज्ञान। ४ इच्छा। ५ खाना, भक्षण। ६ परिणयन, विवाह (श्रा २३)।

वाय वि [व्याद्] विशेष ग्रहण करनेवाला (श्रा २३)।

वाय वि [वाच्] वक्ता, बोलनेवाला (श्रा २३)।

वाय पुं [वात्] १ पवन, वायु (भग; राया १, ११; जी ७; कुमा)। २ उदकप (उव ५५ टि)। ३ पुंन. एक देव-विमान (सम १०)।

कंत पुंन [कान्त] एक देव-विमान (सम १०)। कम्मन [कर्मन्] अपान वायु का सरना, पादना, पाद, पदन (श्रीघ ६२२ टि)।

कूड पुंन [कूट] एक देव-विमान (सम १०)। खंघ पुं [खन्ध] धनवात आदि वायु (ठां २, ४—पत्र ८६)। उम्मय पुंन [ध्वज] एक देव-विमान (सम १०)।

णिसग्ग पुं [निसर्ग] अपान वायु का सरना, पदन (पडि)। पल्लिकखोभ पुं [परिक्षोभ] कृष्णराजि, काले पुद्गलों की रेखा (भग ६, ५—पत्र २७१)।

प्पभ पुंन [प्रभ] देव-विमान विशेष (सम १०)। फलिह पुं [परिघ] कृष्णराजि (भग ६, ५)।

रुह पुं [रुह] वनस्पति-विशेष (पण १—पत्र ३६)। लेस्स पुंन [लेश्य] एक देव-विमान (सम १०)।

वण्ण पुंन [वर्ण] एक देव-विमान (सम १०)। सिंग पुंन [शृङ्ग] एक देव-विमान (सम १०)। सिट्ट पुंन [सृट्ट] एक देव-विमान (सम १०)।

वत्त पुंन [वर्त] एक देव-विमान (सम १०)।

वाय पुं [वाद] १ तत्त्व-विचार, शास्त्रार्थ (श्रीघभा १७; धर्मवि ८०; प्रासू ६३)। २ उक्ति, वचन (श्रीप)। ३ नाम, आख्या:

बल्लहवाएण अलं मम' (गा १२३) । ४ वजानाः महलवायचउफल्लोयं (सिरि १५७) । ५ स्वैर्यं, स्तिरता (आ २३) । ०थ्य पुं [०थ्य] तत्त्व-चर्चा; 'तेहिं समं कुणइ वायत्थं' (पउम ४१, ५७) । ०थिय वि [०थियन्] शास्त्रार्थ की चाहवाला (पउम १०५, २६) ।

०वाय पुं [पाक] १ रसोई । २ बालक । ३ दैत्य, दानव (आ २३) । देखो पाग ।

०वाय पुं [पात] १ पतन (स ६५७; कुमा) । २ गमन । ३ उत्पतन, कूदन (से १, ५५) । ४ पक्षी । ५ न. पक्षि-समूह (आ २३) ।

०वाय वि [पात्] १ रक्षा करनेवाला । २ पीनेवाला । ३ सूखनेवाला (आ २३) ।

०वाय देखो वाय (आ २३) ।

०वाय पुं [पाद्] १ पर्यन्त । २ पर्वत । ३ पूजा । ४ मूल । ५ किरण । ६ पैर । ७ चौथा भान (आ २३) । देखो पाय = पाद ।

०वाय देखो पाव = पाप (आ २३) ।

०वाय पुं [पाय] १ रक्षा, रक्षण । २ वि. पीनेवाला (आ २३) ।

०वाय देखो अवाय = अपाय; 'बहुवायम्मि वि देहे विमुञ्जमाणस्स वर मरणं' (उव) ।

वायउत्त पुं [दे] १ विट, भेंडुआ । २ जार, उपपति (दे ७, ८८) ।

वायगण न [दे] वंगन, वृन्ताक, भंटा (आ २०; संवोध ४४; पव ४) ।

वायंतिय वि [वागन्तिक] वचन-मात्र में नियमित (राज) ।

वायगं पुं [वाचक] १ अभिवायक, अभिवा-वृत्ति से अर्थ का प्रकाशक शब्द (सम्मत्त १४३) । २ उपाध्याय, सूत्र-पाठक मुनि (गण ५; संवोध २५; सार्ध १४७) । ३ पूर्व-ग्रन्थों का जानकार मुनि (पएण १—पत्र ४; सम्मत्त १४१; पंचा ६, ४५) । ४ एक प्राचीन जैन महर्षि और ग्रन्थकार, तत्त्वार्थ सूत्र का कर्ता श्री उमास्वातिजी (पंचा ६, ४५) । ५ वि. कथक, कहनेवाला । ६ पढ़ाने-वाला (गण ५) ।

वायग वि [वाद्क] वजानेवाला (कुमा ६; महा) ।

वायग पुं [वायक] तन्तुवाय, जुलाहा (दे ६, ५६) ।

वायगवंस पुं [वाचकवंश] एक जैन मुनि-वंश (एदि ५०) ।

वायड पुं [दे] एक श्रेष्ठ-वंश (कुप्र १४३) ।

वायड वि [व्याकृत] स्पष्ट, प्रकट अर्थवाला (दसनि ७) । देखो वागरिय ।

वायडघड पुं [दे] वाद्य-विशेष, दडुर नामक बाजा (दे ७, ६१) ।

वायडाग पुं [दे] सर्प की एक जाति (पएण १—पत्र ५१) ।

वायण न [वाचन] देखो वायणा (नाट—रत्ना १०) ।

वायण न [वादन] १ वजाना (सुपा १६; २६३; कुप्र ४१; महा; कप्प) । २ वि. वजानेवाला (दे ७, ६१ टी) ।

वायण न [दे] भोज्योपायन, खाद्य पदार्थ का बाँटा जाता उपहार, वायन (दे ७, ५७; पात्र) ।

वायणया } स्त्री [वाचना] १ पठन, गुरु-  
वायणा } समीपे अध्ययन (उप २६, १) ।  
२ अध्यापन, पढ़ाना (सम १०६; उव) ।  
३ व्याख्यान (पव ६४) । ४ सूत्र-पाठ (कप्प) ।

वायणिअ वि [वाचनिक] वचन-संबन्धी (नाट—विक्र ३५) ।

वायय देखो वायग = वायक (दे ५, २८) ।

वायरण देखो वागरण (हे १, २६८; कुमा; भवि; पड) ।

वायच वि [वायच] वायु रोगवाला, वात-रोगी (विपा १, १—पत्र ५) ।

०वायव देखो पायव (से ७, ६७) ।

वायव्य वि [वायव्य] वायव्य कोण का (अएण २१५) ।

वायव्य पुं [वायव्य] १ वायुदेवता-संबन्धी; 'वाखणवायव्वाइं पडुविवाइं कमेण सत्त्वाइं' (सुर ८, ४५; महा) । २ न. गौ. के खुर से उड़ी हुई धूलि—रज; 'वायव्वएहाणएहाया' (कुमा) ।

वायव्या स्त्री [वायव्या] पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, वायव्य कोण (ठा १०—पत्र ४७८; सुपा ६८; २६७) ।

वायस पुं [वायस] १ काक, कौआ (उवाः प्रासू १६६; हे ४, ३५२) । २ कायोत्सर्ग का एक दोष, कायोत्सर्ग में कौए की तरह दृष्टि को इधर-उधर घुमाना (पव ५) ।

०परिमंडल न [०परिमण्डल] विद्या-विशेष; कौए के स्वर और स्थान आदि से शुभाशुभ फल बतलानेवाली विद्या (सूत्र २, २; २७) ।

वाया स्त्री [वाच] १ वाचन, वाणी (पात्र; प्रासू ६; पडि; स ४६२; से १, ३७; गा ३२; ४०६) । २ वाणी की अधिष्ठायिका देवी, सरस्वती (आ २३) । ३ व्याकरण-शास्त्र (गउड ८०२) । देखो वइ = वाच् ।

वायाड पुं [दे. वाचाट] शुक, तोता (दे ७, ५६) ।

वायाड वि [वाचाट] वाचाल, बकवादी (सुपा ३६०; चेइय ११७; संक्षि २) ।

वायाम पुं [व्यायाम] कसरत, शारीरिक श्रम (ठा १—पत्र १६; राया १, १—पत्र १६; कप्प; श्रौप; स्वप्न ३६) ।

वायाम सक [व्यायामय्] कसरत करना, शारीरिक श्रम करना । वक. 'सुट्ठु वि वायामेतो कार्यां न करेइ किंचि गुणं' (उव) ।

वायायणं पुं [वातायन] १ गवाक्ष; क्रोडा (पउम ३६, ६१; स २४१; पात्र; महा) । २ पुं. राम का एक सैनिक (पउम ६७, १०) ।

वायार पुं [दे] शिशिर-वात, गुजराती में 'वायरो' (दे ७, ५६) ।

वायाल वि [वाचाल] मुखर, बकवादी (आ १२; पात्र; सुपा ११३) ।

०वायाल देखो पायाल (से ५, ३७) ।

वायाविअ वि [वादित] वजवाया हुआ (स ५२७; कुप्र १३६) ।

वायु देखो वाड = वायु (सुज १०, १२; कुमा; सम १६) ।

वार सक [वारय्] रोकना, निषेध करना । वारेइ (उव; महा) । वक. वारंत (सुपा १८३) । कवक. वारिजंत (काप्र १६१; महा) । हेक. वारेउं (सूत्र १, ३, २, ७) । क. वारियव्व, वारेयव्व (सुपा ५५२; २७२) ।

वार पुं [दे. वार] चक्क, पान-गान (दे ७, ५४) ।

वार पुं [वार] १ समूह, दूय (सुपा २१४; सुर १४, २४; सार्धं ४६; कुमा; सम्मत् १७५) । २ अवसर, वेला, दफा (उप ६२८; सुपा ३६०; भवि) । ३ सूर्य आदि ग्रह ने अधिकृत दिन, जैसे रविवार, सोमवार आदि (गा २६१) । ४ ज्योतिष नरक का एक नरक-स्थान (ठा ६—पत्र ३६५) । ५ वारी, परिपाटी (उप ६४८ टी) । ६ कुम्भ, घड़ा (दस ५, १, ४५) । ७ वृत्त-विशेष । ८ न. क्ल-विशेष (पण १७—पत्र ५३१) ।  
 जुवइ वी [जुवति] वारांगना, वेश्या (कुमा) ।  
 जोञ्चणी वी [जोचनी] वही अर्थ (प्राक् १४) ।  
 तरुणी वी [तरुणी] वही (सण) ।  
 वहु वी [वधू] वही अर्थ (कुप्र ४४३) ।  
 विलया वी [वन्तिता] वही पूर्वोक्त अर्थ (कुमा; सुपा ७८; २००) ।  
 विलासिणी वी [विलासिनी] वही (कुमा; सुपा २००) ।  
 सुंदरी वी [सुन्दरी] वही अर्थ (सुपा ७६) ।  
 वार न [द्वार] दरवाजा (प्राक् २६; कुमा; गा ८८०) ।  
 वई वी [वती] द्वारका नगरी (कुप्र ६३) ।  
 वाल पुं [पाल] दरवान, प्रतीहार (कुमा) ।  
 वारंत देखो वार = वार्यु ।  
 वारंवार न [वारंवार] फिर फिर (से ६, ३२; गा २६४) ।  
 वारग पुं [वारक] १ वारी, क्रम (उप ६४८ टी) । २ छोटा घड़ा, लघु कलश (पिड २७८) । ३ वि. निवारक, निषेधक (कुप्र २६; वर्मवि १३२) ।  
 वारडिय न [दे] रक्त वस्त्र, लाल कपड़ा (गच्छ २, ४६) ।  
 वारडु वि [दे] अभिषिद्धि (पड) ।  
 वारण न [वारण] १ निषेध, रोक, अटकव, निवारण (कुमा; श्रौष ४४८) । २ छत्र, छाता; 'वारण्यवामेरेहि नञ्जेति' फुडं महा-नुहडा' (विरि १०२३) । ३ वि. रोकनेवाला, निवारक (कुप्र ३१२) । ४ पुं. हाथी (प्राक्; कुमा; कुप्र ३१२) । ५ छन्द का एक भेद (पिग) ।  
 वारण देखो वागरण (हे १; २६८; कुमा; पड) ।

वारणा वी [वारणा] निवारण, अटकव (वृह १) ।  
 वारत्त पुं [वारत्त] १ एक अन्तकृद् मुनि (अंत १८) । २ एक ऋषि (उव) । ३ एक अमात्य । ४ न. एक नगर (धम्म ६ टी) ।  
 वारवाण पुं [वारवाण] कञ्चुक, चोली (पात्र) ।  
 वारय देखो वारग (रंभा, खाया १, १६—पत्र १६६; उप पृ ३४२; उवा; अंत) ।  
 वारसिआ वी [दे] मल्लिका, पुष्प-विशेष (दे ७, ६०) ।  
 वारसिय देखो वारिसिय; 'वारसियमहावाण' (सुपा ७१) ।  
 वारा वी [वारा] १ देवी, विलम्ब; 'अम्मो किमञ्ज कञ्जं जं लग्गा एत्तिया वारा' (सुपा ४५६) । २ वेला, दफा; 'तो पुणरवि निज्जायइ वाराओ दुव्वि तिन्नि वा जाव' (सट्टि ६ टी), 'कहं महइ वाराण्णग्गयस्स' (विबुधानन्द) ।  
 वाराणसी देखो वाणारसी (अन्त; पि ३५४) ।  
 वाराविय वि [वारित] जिसका निवारण कराया गया हो वह (कुप्र १४०) ।  
 वाराह पुं [वाराह] १ पांचवें बलदेव का पूर्वभवीय नाम (सम १५३) । २ वि. शूकर के सदृश (उवा) ।  
 वाराही वी [वाराही] १ विद्या-विशेष (पत्तम ७, १४१) । २ बराहमिहिर का बनाया हुआ एक ज्योतिष-ग्रन्थ, वराह-संहिता (सम्मत् १२१) ।  
 वारि न [वारि] १ पानी, जल (पात्र; कुमा; सण) । २ वी. हाथी को फंसाने का स्थान; 'वारी करिवरणद्वारण' (पात्र; स १७७; ६७८) । ३ भद्रग पुं [भद्रक] भिक्षुक की एक जाति, शैवलाशी भिक्षुक (सुप्रनि ६०) । ४ मय वि [मय] पानी का बना हुआ । वी. 'ई (हे १, ४; पि ७०) । ५ मुअ पुं [मुच] मेघ, जलवर (पड) । ६ यं पुं [द] पानी देनेवाला भृत्य (स ७४१) । ७ रासि पुं [राशि] समुद्र, सागर (सम्मत् १६०) । ८ वाह पुं [वाह] मेघ, अन्न (उप २६४ टी) । ९ सेण पुं [सेण] १ एक अन्तकृद् महापि, जो राजा वसुदेव के पुत्र थे

श्रीर जिन्होंने भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ली थी (अन्त १४) । २ एक अनुत्तर-गामी मुनि, जो राजा श्रेणिक के पुत्र थे (अनु १) । ३ ऐश्वर्य वप में उत्पन्न चौबीसवें जिनदेव (सम १५३) । ४ एक शोधती जिन-प्रतिमा (पत्र ५६; महा) । ५ सेणा वी [सेणा] १ एक शाश्वती जिन-प्रतिमा (ठा ४, २—पत्र २३०) । २ अघोलोक में रहने-वाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७; इक २३१ टि) । ३ एक महानदी (ठा ५, ३—पत्र ३५१; इक) । ४ ऊर्ध्वलोक में रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (इक २३२) । ५ हर पुं [वर] मेघ (गजड) ।  
 वारिअ पुं [दे] हजाम, नापित (दे ७, ४७) ।  
 वारिअ वि [वारित] १ निवारित, प्रतिषिद्ध (पात्र; से २, २३) । २ वेष्टित (से २, २३) ।  
 वारिआ वी [द्वारिका] छोटा दरवाजा, वारी (ती २),  
 'वप्पस्स चा(वा)रियाए परिकित्तो  
 खाइयामग्गे ।'  
 'जो जलपूरियविट्ठाकूवाओ  
 चा(वा)रियाइ निक्कासो ।  
 सो उवचियग्गमाओ जोरुओ निग्गमो इव ।'  
 (वर्मवि १४६) ।  
 वारिज्ज पुं [दे] विवाह, शादी (दे ७, ५५; पात्र; उप पृ ८०) ।  
 वारिसा देखो वरिसा (विक्र १०१) ।  
 वारिसिय वि [वारिपिक] १ वर्ष-संवन्धी (राज) । २ वर्षा-संवन्धी; 'चिट्ठइ चवरो मासा वारिसिया विबुहपरिमहिओ' (पत्तम ८२, ६५) ।  
 वारी वी [द्वारिका] वारी, छोटा दरवाजा (ती २) ।  
 वारी वी [वारी] देखो 'वारि' का दूसरा अर्थ; 'वडो वारीववे फासेण गग्गो निहण' (सुर ८, १३६; श्रौष ४४६ टी) ।  
 वारी न [वारि] जल, पानी (हे १, ४; पि ७०) ।  
 वारुअ न [दे] १ शीघ्र, जल्दी । २ वि. शीघ्रता-युक्त; 'ए वात्था अन्हे' (दे ७, ४८) ।

वारुण न [वारुण] १ जल, पानी; 'निम्मल-वारुणमंडलमंडितसत्तिचारपाणुपवेत्ते' (सिरि ३६१)। २ वि. वरुण-संभवो (पउम १२, १२७; सुर ८, ४५; महा)। °त्य न [वारु] वरुणाविष्टित भद्र (महा)। °पुर न [पुर] नगर-विशेष (इक)।

वारुणी स्त्री [वारुणी] १ मदिरा, सुरा, दारु (पात्र; से २, १७; सुर ३, ५५; परह २, ५—पत्र १५०)। २ लता-विशेष, इन्द्र-वारुणी, इन्द्रायन (कुमा)। ३ पश्चिम दिशा (ठा १०—पत्र ४७८; सुपा २५५)। ४ भगवान् सुविधिनाय की प्रथम शिष्या का नाम (सम १५२; पव ६)। ५ एक दिक्कु-मारी देवी (इक)। ६ कायोत्सर्ग का एक दोष—१ निष्ठा न होतो मदिरा की तरह कायोत्सर्ग में 'बुड-बुड' आवाज करना। २ कायोत्सर्ग में मतवाला की तरह डोलते रहना (पव ५)।

वारुया } स्त्री [दे] हस्तिनी, हयिनी (स ७३५; वारुया } ६४)।

वारिज्ज देखो वारिज्ज (स ७३४)।

वारियन्व देखो वार = वारय।

वाल सक [वाल्य] १ मोड़ना। २ वापस लौटाना। बालइ, बालेइ (हे ४, ३३०; भवि; सिरि ४४२)। कवक, वालिज्जंत (सुर ३, १३६)। संक, बालेऊण (महा)।

वाल पुं [व्याल] १ सर्प, साँप (गउड; खाया १, १ टी—पत्र ६; औप)। २ दुष्ट हाथी (सुर १०, २१६; चेइय ५८)। ३ हिसक, पशु, श्वापद (खाया १, १ टी—पत्र ६; औप)। देखो विआळ = व्याल।

वाल न [वाल] १ एक गोत्र, जो कश्यप-गोत्र की एक शाखा है। २ पुंस्त्री. उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०)।

वाल देखो बाल = बाल (औप; पात्र)। °य वि [°ज] केशों से बना हुआ (पउम १०२, १२१)। °वीयणी स्त्री [°वीजनी] १ चामर 'पंच रायकउहाई; तं जहा—खगं छतं उफेत्तं वाहणाओ बालवीर्याण' (औप)। २ छोटा ब्रह्म—पंखा; 'सियचामरवाल-वीयणीहि वीइज्जमाणी' (खाया १, १—

पत्र ३२) सूत्र १, ६, १८)। °हि पुं [°धि] वही अर्थ (पात्र; सुपा २८१)।

°वाल देखो पाल = पाल (काल; भवि; कुमा १, ६६)।

वालफोस न [दे] कनक, सोना (दे ७, ६०)।

वालग न [वालक] पात्र-विशेष, गौ आदि के बालों का बना हुआ पात्र (आचा २, १, ८, १)।

वालगपोतिया } स्त्री [दे] देखो वालग-वालगपोइया } पोइआ (सुज्ज ४—पत्र ७०; उत ६, २४; सुज्ज ६, २४)।

वालग न [वालन] लौटाना (सुर १, २४६)।

वालप्प न [दे] पुच्छ, दुम, पूछ (दे ७, ५७)।

वाल्य पुं [वालक] गन्ध-द्रव्य-विशेष (पात्र)।

वालवास पुं [दे] मस्तक का आभूषण (दे ५६)।

वालवि पुं [व्यालपिन्] मदारी, साँपों को पकड़ने आदि का व्यवसाय करनेवाला, सेंपरा (परह १, २—पत्र २६)।

वालहिइ पुं [वालखिल्य] ऋतु से उत्पन्न पुतस्य कन्या के साठ हजार पुत्र, जो शंमुख-पर्व के देह-मानवाले थे (गउड)। देखो वालिखिल।

वाला पुंस्त्री [वाला] कंगू, अन्न-विशेष; 'संपरणं बालावल्लरत्रं' (गा ८१२)।

वालि पुं [वालि] एक विद्यावर-राजा, कपिराज (पउम ६, ६; से १, १३)। °तणअ पुं [°तनय] राजा वालि का पुत्र, अंगद (से १३, ८३)। °सुअ पुं [°सुत] वही अर्थ (से ४, १२; १३, ६२)।

वालि वि [वालिन] बरू, टेढ़ा (से १, १३)।

वालि वि [वालिन] १ केशवाला। २ पुं. कपिराज (अणु १४२)।

वालिअ वि [वालित] मोड़ा हुआ (पात्र; स ३३७)।

वालिआफोस न [दे] कनक, सुवर्ण (दे ७, ६०)।

वालिइ पुं [वालीन्द्र] विद्यावर वंश का एक राजा (पउम ५, ४५)।

वालिखिल-पुं [वालिखिल्य] एक राजपि. (पउम ३४, १८)। देखो वालिहिइ।

वालिहाण न [वालधान] पुच्छ, पूछ (खाया १, ३; उवा)।

वालिहिइ देखो बालहिइ (गउड ३२०)।

वाली स्त्री [दे] वाद्य-विशेष, मुँह के पवन से बजाया जाता तृण-वाद्य (दे ७, ५३)।

°वाली स्त्री [पाली] रचना-विशेष, गाल आदि पर की जाती कस्तूरी आदि की छटा (कणू)। देखो पाली।

वालुअ पुं [वालुक] १ परमाधामिक देवों की एक जाति, जो नरक-जीवों को तप्त बालुका—बालू में चने की तरह भुनते हैं (सम २६)। २ धूलों-सम्बन्धी (उप पृ २०५)।

वालुअ } स्त्री [वालुका] धूलि, बालू, रेत, रज वालुआ } (गउड)। °पुडवी स्त्री [°पृथिवी] तीसरी नरक-पृथिवी (पउम ११८, २)।

°पभा, °पहा स्त्री [°प्रभा] तीसरी नरक-भूमि (ठा ७—पत्र ३८८; इक; अंत १५)।

°भा स्त्री [°भा] वही अर्थ (उत ३६, १५७)।

वालुक न [दे] पचान्न-विशेष, एक तरह का खाद्य; 'वीरवहिस्सुवकट्टरलंभे गुडसपिण्डग-वालुके' (पिड ६३७)।

वालुक न [वालुक] ककड़ी, खीरा (अनु ६; कुप्र ५८)।

वालुकी } स्त्री [वालुकी] ककड़ी का गाल वालुकी } (गा १०; गा १० अ)।

वालुग° देखो वालुअ° (स १०२)।

वाव सक [वि + आप्] व्याप्त करना। वावेइ (हे ४, १४१)।

वाव अ [वाव] अथवा, या (विसे २०२०)।

वाव पुं [वाप] बपन, बोना (दे ६, १२६)।

वावइज्ज देखो वावज्ज। वावइज्जामि (स ७४१)।

वावंफ अक [कु] धम करना। वावंफइ (हे ४, ६८)।

वावंफिर वि [करिण्णु] धम करनेवाला (कुमा)।

वावज्ज अक [व्या + पद्] मर जाना। वावज्जंति (अण)।

वाचड पुं [दे] कुडुम्बी, किसान (दे ७, ५४) ।  
 वाचड वि [व्यापृत] १ व्याकुल (दे ७, ५४ टी) । २ किसी कार्य में लगा हुआ (हैं १, २०६; प्रायः कस; सुर १, २६) ।  
 वाचड वि [व्यावृत्त] लौटाया हुआ, वापस किया हुआ (उप ५३४) ।  
 वाचडय त्रीन [दे] विपरीत मैथुन (दे ७, ५८) । स्त्री. ०या (प्राय) ।  
 वाचण न [व्यापन] व्याप्त करना (वित्ते ८६) ।  
 वाचणग वि [वामनक] ठिगयो, ठिगना, बीना, छोटे कद का (चउम्पन० पत्र १६१) ।  
 वाचणी स्त्री [दे] छिद्र, विवर (दे ७, ५५) ।  
 वाचण्ण देखो वाचन्न (खाया १, १२) ।  
 वाचत्ति स्त्री [व्यापत्ति] विनाश, मरण (खाया १, ६—पत्र १६६; उप ५०६; स ३६५; ४३२; धर्मसं ६३४; ६७६) ।  
 वाचत्ति स्त्री [व्यापृत्ति] व्यापार (उप ५०६) ।  
 वाचत्ति स्त्री [व्यावृत्ति] निवृत्ति (ठा ३, ४—पत्र १७४) ।  
 वाचन्न वि [व्यापन्न] विनाश-प्राप्त (ठा ५, २—पत्र ३१३, स २४१; सम्मत २८; सं ६०) ।  
 वाचय पुं [दे] आयुक्त, गाँव का मुखिया (दे ७, ५५) ।  
 वाचर अक [व्या + पृ] १ काम में लगना । २ सक. काम में लगाना । वाचरेइ (हैं ४, ८१); वाचरेइ (भवि); 'सयं गिहं परिचचव परिगिहम्मि वाचरे' (उत्त १७, १८; सुख १७, १८) । वक्र. वाचरंत (कुमा ६, ५१) । प्रयो., हेइ. वाचराविउं (स ७६२) ।  
 वाचरण न [व्यापरण] कार्य में लगाना (भवि) ।  
 वाचरु देखो वाचड = व्यापृत (उप पृ ८७) ।  
 वाचरु पुंन [दे. वाचरु] शल-विशेष (सण) ।  
 वाचहारिअ वि [व्यावहारिक] व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाला (इक; वित्ते ६५६; जीवस ६५) ।  
 वाचाअ (?) अक [अच + काश्] अचकाश पाना, जगह प्राप्त करना । वाचाअइ (वाक्वा १५२) ।

वाचाअ सक [व्या + पादय] मार डालना, विनाश करना । वाचाअइ (स ३१; महा) । कर्म. वाचाअइइ, वाचाअइइइ (स ६७३), भवि. वाचाअइइइइ (पि ५४६) । संक. वाचाअइइइ (स ७५५) । क. वाचाअइइइ (स १३५) ।  
 वाचाअ वि [व्यापादित] मार डाला गया, विनाशित (सुपा २४१), 'अवावावि(?)ओ चैव विउत्तो ए सुओ' (स ४११) ।  
 वाचायग वि [व्यापादक] हिंसक, विनाश-कर्ता (स २६७) ।  
 वाचायग न [व्यापादन] हिंसा, मार डालना, विनाश (स ३३; १०२; १०३; ६७५; सुर १२, २१६) ।  
 वाचायय देखो वाचायग (स ७५०) ।  
 वाचार सक [व्या + पारय] काम में लगाना । वक्र. वाचारंत (गउड २४४) । क. वाचारियव्य (सुपा १६२) ।  
 वाचार पुं [व्यापार] व्यवसाय (ठा ३, १ टी—पत्र ११४; प्रातू ६१; १२१; नाट—विक्र १७) ।  
 वाचारण न [व्यापारण] कार्य में लगाना (वित्ते ३०७१; उप पृ ७१) ।  
 वाचारि वि [व्यापारिन्] व्यापारवाला (से १४; ६६; हम्मीर १३) ।  
 वाचारिइ (श्री) वि [व्यापारित] कार्य में लगाना हुआ (नाट—शकु १२०) ।  
 वाचि अ [वापि] १ अयवा, या (पव ६७) । २ स्त्री. देखो वाची (पएह १, १—पत्र ८) ।  
 वाचि वि [व्यापिन्] व्यापक (वित्ते २१५; था २८४; धर्मसं ५२५) ।  
 वाचिअ वि [दे] विस्तारित (दे ७, ५७) ।  
 वाचिअ वि [वापित] १ प्राप्त, प्राप्त करवाया हुआ (से ६, ६२) । २ बोया हुआ; पुजराती में 'वावेतु'; 'जं आसी पुव्वभवे धम्मवीयं वाचियं तए जीव' (आत्तमहि ८; दे ७, ८६) ।  
 वाचिअ वि [व्याप्त] भरा हुआ (कुमा ६, ६५) ।  
 वाचित्त वि [व्यावृत्त] व्यावृत्तिवाला, निवृत्त (धर्मसं ३२१) ।

वाचित्ति स्त्री [व्यावृत्ति] व्यावर्तन, निवृत्ति (धर्मसं १०५) ।  
 वाचिइ देखो वाइइइ = व्यादिग्ध, व्याचिइ (ठा ५, २—पत्र ३१३) ।  
 वाचिर देखो वाचर । वाचिरइ (पइ) ।  
 वाची स्त्री [वापी] चतुष्कोण जलाशय-विशेष (श्रीप; गउड; प्रामा) ।  
 वाचुड } (श्री) देखो वाचड = व्यापृत (नाट—  
 वाचुइ } मृच्छ २०१; पि २१८; चार ६) ।  
 वाचोगय न [दे] विकीर्ण, बिखरा हुआ (दे ७, ५६) ।  
 वाशु (ना) स्त्री [वासु] नाटक की भाषा में बाला (मृच्छ २७) ।  
 वास देखो वरिस = वृष । वासंति (भग) । भूका. वासिनु (कप) । क. वासिउं (ठा ३, ३—पत्र १४१; पि ६२; ५७७) ।  
 वास अक [वाश्] १ तिर्यक्तों का—पशु पक्षियों का बोलना । २ आह्वान करना; 'खीरडुमम्मि वासइ वामत्तो वायसो चलिय-पक्खो' (पउम ५५, ३१); वासइ, वासए (भवि; कुप्र २२३) । वक्र. वासंत (कुप्र २२३; ३८७) ।  
 वास सक [वासय] १ संस्कार डालना । २ सुगन्धित करना । ३ वास करवाना । वासइ (भवि) । वक्र. वासंत, वासयंत (श्रीप; कप) । क. वासणिज्ज (वित्ते १६७७; धर्मसं ३२६) ।  
 वास देखो वरिस = वर्ष (सम २; कप, जी ३४; गउड, कुमा; भग ३, ६; सम १२; हैं १, ४३; २, १०५; पइ ४६; सुपा ६७) ।  
 वासाण न [वाण] छत्र, छाता (धर्म ३; शोध ३०) । धर, हर पुं [धर] पर्वत-विशेष (उवा ७४; २५३; ठा २, ३; सम १२; इक) ।  
 वास पुं [वास] १ निवास, रहना (आचा; उप ४८६; कुमा; प्रातू ३८) । २ सुगन्ध (कुमा; भवि) । ३ सुगन्धी द्रव्य-विशेष (गउड) । ४ सुगन्धी वृक्ष-विशेष; 'पणवत्त-वासवासं विहियं ठोत्ताउ तियत्तेहि' (सुपा ६७; दंस २) । ५ द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (पएण १—पत्र ४४) । धर न [गृह] शयन-गृह (खाया १, १६—पत्र

२०१) । °भवण न [°भवन्] वही अर्थ (महा) । °रेणु पुं [°रेणु] सुगन्धी रज (श्रीप) । °हर न [°गृह] शयन-गृह (सुर ६, २७; सुपा ३१२; भवि) ।

वास पुं [व्यास] १ अग्नि-विशेष, पुराण-कर्ता एक मुनि (हे १, ५; कप्प) । २ विस्तार (भग २, ८ टी) ।

वास न [वासस्] वस्त्र, कपड़ा (पात्र; वज्जा १६२; भवि) ।

°वास देखो पास = पाश (गडड) ।

°वास देखो पास = पार्वं (प्राक् ३०; गडड) ।

वासंग पुं [व्यासङ्ग] आसक्ति, तत्परता; 'ताहे सा पडिबुद्धा विसं व मोत्तूण विसय-वासंगं' (उप १३१ टी; कुप्र ११८; उप पृ १२७) ।

वासंठ } (अप) पुं [वसन्त] छन्द का एक  
वासंत } भेद (पिग १६३; १६३ टि) ।

वासंत पुं [वर्षान्त] वर्षा-काल का अन्त-भाग (उप ४८८) ।

वासन्तिअ वि [वासन्तिक] वसन्त-सम्बन्धी (मै ३) ।

वासन्तिअ } स्त्री [वासन्तिका, °न्ती] लता-  
वासन्तिआ } विशेष (श्रीप; कप्प; कुमा; परण  
वासन्ती ) १—पत्र ३२; राया १, ६—  
पत्र १६०; परह १, ४—पत्र ७६) ।

वासंदी स्त्री [दे] कुन्द का पुष्प (दे ७, ५५) ।

वासग वि [वासक] १ रहनेवाला (उप ७६८ टी) । २ वासना-कर्ता, संस्काराघातक (धर्मसं ३२६) । ३ शब्द करनेवाला । ४ पुं, द्वीन्द्रिय आदि जन्तु (आचा) ।

वासण न [दे] पात्र, वरतन; गुजराती में 'वासण'; 'दिट्ठं च पयत्तट्ठावियं चंदणानामं-कियं हिरण्णवासणं' (स ६१; ६२) ।

वासण न [वासन] वासित करना (दसन ३, ३) ।

वासणा स्त्री [वासना] संस्कार (धर्मसं ३२६) ।

°वासणा स्त्री [दर्शन] अवलोकन, निरीक्षण (विसे १६७७; उप ४६७) देखो पासणया ।

वासय देखो वासग । °सज्जा स्त्री [°सज्जा] नायिका का एक भेद, वह नायिका जो नायक की प्रतीक्षा में सज-धज कर बैठी हो (कुमा) ।

वासर पुंन [वासर] दिवस, दिन (पात्र; गडड; महा) ।

वासव पुं [वासव] १ इन्द्र, देव-पति (पात्र; सुपा ३०४; वेइय ५८०) । २ एक राज-कुमार (विपा १, १—पत्र १०३) । °केउ पुं [°केतु]

हरिवंश का एक राजा, राजा जनक का पिता (पउम २१, ३२) । °दत्त पुं [°दत्त] त्रिजयपुर नगर का एक राजा (विपा २, ४) ।

°दत्ता स्त्री [°दत्ता] एक आख्यायिका (राज) । °धनु पुंन [धनुपु] इन्द्र-धनुष (कुप्र ४५६) । °नगर न [°नगर] अमरावती,

इन्द्र-नगरी (सुपा ६०६) । °पुरी स्त्री [°पुरी] वही अर्थ (उप पृ १७६) । °सुअ पुं [°सुत]

इन्द्र का पुत्र, जयन्त (पात्र) ।

वासवदत्ता स्त्री [वासवदत्ता] राजा चंड प्रद्योत की पुत्री और उदयन—वीणावत्सराज की पत्नी (उत्तनि ३) ।

वासवार पुं [दे] १ तुरग, घोड़ा (दे ७, ५६) । २ धान, कुत्ता; 'विट्टालिज्जइ गंगा कयाइ कि वासवारोहं' (वेइय १३४) ।

वासवाल पुं [दे] धान, कुत्ता (दे ७, ६०) ।

वासस न [वासस्] वस्त्र, कपड़ा; 'कुभोयणा कुवाससा' (परह १, २—पत्र ४०) ।

वासा देखो वरिसा (कुमा; पात्र; सुर २, ७८; गा २३१) । °रन्ति स्त्री. देखो वरिसा-रत्त

(हे ४, ३६५) । °वास पुं [°वास] चतुर्मास में एक स्थान में किया जाता निवास (श्रीप; काल; कप्प) । °वासिय वि [°वार्पिक]

वर्षाकाल-संबन्धी (आचा २, २, २, ८; ६) । °हू पु [°भू] भेक, मेढक (दे ७, ५७) ।

वासाणिया स्त्री [दे. वासनिका] वनस्पति-विशेष (सूत्र २, ३, १६) ।

वासाणी स्त्री [दे] रथ्या, मुहल्ला (दे ७, ५५) ।

वासि वि [वासिन्] १ निवास करनेवाला, रहनेवाला (सूत्र १, ६, ६; उवा; सुपा ६१८; कुप्र ४६; श्रीप) । २ वासना-कारक, संस्कार-स्थापक (विसे १६७७) ।

वासि स्त्री [वासि] वसूला, बड़ई का एक अन्न — श्रीजार; 'न हि वासिवड्डईणं इहं अमेदो कहं चिदवि' (धर्मसं ४८६) । देखो वासी ।

वासिक } वि [वार्पिक] वर्षाकाल-भावी  
वासिक } (सुज १२—पत्र २१६) ।

वासिद्वि न [वाशिष्ट] १ गोत्र-विशेष (ठा ७—पत्र ३६०; कप्प; सुज्ज १०, १६) ।

२ पुंस्त्री. वाशिष्ट गोत्र में उत्पन्न (ठा ७) । स्त्री. °ट्टा, °ट्टी (कप्प; उत्त १४, २६) ।

वासिद्विया स्त्री [वाशिष्टिका] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) ।

वासित्तु वि [वर्षिन्] वरसनेवाला (ठा ४, ४—पत्र २६६) ।

वासिद्वि } वि [वासित] १ वसाया हुआ,  
वासिय } निवासित (मोह २१) । २ वासी रखा हुआ (अन्न आदि) (सुपा १२; ५३२) । ३ सुमान्वित किया हुआ (कप्प; पव १३३; महा) । ४ भावित, संस्कारित (आव) ।

वासी स्त्री [वासी] वसूला, बड़ई का एक अन्न (परह १, १; पउम १४, ७८; कप्प; सुर १, २८; श्रीप) । °मुह पुं [°मुख]

वसूले के तुल्य मुँहवाला एक तरह का कीट, द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १३६) ।

वासुइ } पुं [वासुकि] एक महा-नाग,  
वासुगि } सर्पराज; (से २, १३; गा ६६; गडड; ती ७; कुमा; सम्मत ७६) ।

वासुदेव पुं [वासुदेव] १ श्रीकृष्ण, नारायण (परह १, ४—पत्र ७२) । २ अर्ध-चक्रवर्ती राजा, त्रिखण्ड भूमि का अधीश (सम १७; १५२; १५३; अंत) ।

वासुपुज्ज पुं [वासुपुज्ज] भारतवर्ष में उत्पन्न वारहवें जिन भगवान् (सम ४३; कप्प; पडि) ।

वासुली स्त्री [दे] कुन्द का फूल (दे ७, ५५) ।

वाह सक [वाहय्] वहन कराना, चलाना । वाहइ, वाहेइ (भवि; महा) । कवकू. वाहिज्जमाण (महा) । हेकू. वाहिउं (महा) ।

कू. वाह, वाहिम (हे २, ७८; आचा २, ४, २, ६) ।

वाह पुंस्त्री [व्याध] लुब्धक, वहेलिया (हे १, १८७; पात्र) । स्त्री. °ही (गा १२१; पि ३८५) ।

वाह पुं [वाह] १ अन्न, घोड़ा (पात्र; सूत्र १, २, ३; ५; उप ७२८ टी; कुप्र १४७; हम्मौर १८) । २ जहाज, नौका; 'वाहोडुवाइ तरणं' (विसे १०२७) । ३ भारवहन, बोझ ढोना (सूत्र १ ३, ४; ५) । ४ परिमाण-विशेष,

आठ सौ आठक का एक मान (तंदु २६) ।  
५ शाकटिक, गाड़ी हाँकनेवाला (सुप्र १, २, ३, ५) । वाहिया ली [वाहिका] बुद्ध-चरारी (धर्मवि ४) ।

वाहगण } पुं [दे] मन्त्रो, ग्रामत्य, प्रवान  
वाहगणय } (दे ७, ६१) ।

वाहड वि [दे] भृत, भरा हुआ: 'बहुवाहडा  
अगाह' (दस ७, ३६) ।

वाहडिया ली [दे] काँवर, वहाँगी (उप पृ  
३३७) ।

वाहण पुंन [वाहन] १ रथ आदि यान: 'जह  
मिचवाहणा लोण' (गच्छ १, ३८; उवा.  
श्रीप; कण) । २ जहाज, नौका, यानपान;  
गुजराती में 'वाहाण' (उवा; सिरि ४२३;  
कुम्मा १६) । ३ न. चलाना: 'वाहवाहण-  
परिस्सतो' (कुप्र १४७) । ४ शकट, बौक  
आदि दोग्राना, भार लाद कर चलाना (परह  
१, २—पत्र २६; द्र २६) । °साला ली  
[शाला] यान रखने का घर (श्रीप) ।

वाहणा ली [वाहना] वहन कराना, बौक  
आदि दोग्राना (शक २५८ टी) ।

वाहणा ली [दे] गोवा, डोक, गला (दे ७  
५४) ।

वाहणा ली [उपानह] छूटा (श्रीप;  
उवा; पि १४१) ।

वाहणिय वि [वाहणिक] वाहन संबन्धी (उप  
७२८ टी) ।

वाहणिया ली [वाहणिका] वहन कराना,  
चलाना: 'आसवाहणियाए' (स ३००) ।

वाहचुं देखो वाहर ।

वाहय वि [वाहक] चलानेवाला, हाँकनेवाला  
(उत्त १, ३७) ।

वाहय वि [व्याहृत] व्याघात-प्राप्त (मोह  
१०७; उव) ।

वाहर सक [व्या + हृ] १ बोलना, कहना ।  
२ आह्वान करना । वाहरइ (हे ४, २५६;  
सुपा ३२२; महा) । कर्म वाहिपइ, वाहरिअइ  
(हे ४, २५३); 'वाहिपंति पहाणा गावडिया'  
(सुर १६, ६१) । कवक. वाहिपंत (कुमा) ।  
वह. वाहरंत (गा ५०३; सुर ६, १६६) ।  
संक्र. वाहरिउं (वव ४) । हेक. वाहचुं  
(से ११, ११६) ।

वाहरण न [व्याहरण] १ उक्ति, कथन  
(कुमा) । २ आह्वान (स २५२; ५०६) ।  
वाहरायिय वि [व्याहारित] कुलवाया हुआ  
(कुप्र १५; महा) ।

वाहरिअ देखो वाहित्त = व्याहृत (सुर १,  
१५०; ४, ६; सुपा १३२; महा) ।

वाहलार वि [दे. वात्सल्यकार] १ स्नेही,  
अनुरागी । २ समा; गुजराती में 'वाहलेसरी';  
'अह नरवाहो तमत्रजायंपि । नियतपुंजं  
मन्तंते लालेइ वाहलाख्व' (धर्मवि १२८) ।

वाहलिया } ली [दे] बुद्ध नदी, छोटा जल-  
वाहली } प्रवाह (वज्जा २२; ५४; दे ७,  
३६) ।

वाहा ली [दे] बालुका, रेत (दे ७, ५४) ।

वाहाया ली [दे] वृक्ष-विशेष; 'गमिसंगलिया  
ति वा वाहायासंगलिया ति वा प्रगतिसंगलिया  
ति वा' (अनु ५) ।

वाहाविय वि [वाहित] चलाया हुआ (महा) ।

वाहि देखो वाहर । संक्र. वाहित्ता (आक  
३८; पि ५८२) ।

वाहि पुंनो [व्याधि] रोग, बीमारी; 'चज्जिहे  
वाही पन्तते' (ठा ४, ४—पत्र २६५; पाप्र;  
सुर ४, ७५; उवा; प्रासू १३३; महा);  
'एयाओ सत्त वाहीओ दावणाओ' (महा) ।

वाहि वि [वाहिन्] वहन करनेवाला; होनेवाला;  
'जहा खरो चंदणभारवाही' (उव) ।

वाहिअ वि [वाहित] चलाया हुआ; 'वाहियं  
तम्मि वंसकुड्ढे तं खणं' (महा); 'तो तेण  
तेण खणेण कोसवित्तेण वाहिओ धाओ'  
(सुपा ५२७) ।

वाहिअ देखो वाहित्त = व्याहृत (हे २, ६६;  
पड; महा; उपाया १, १—पत्र ६३) ।

वाहिअ वि [व्याधित] रोगी, बीमार (सिरि  
१०७८; उपाया १, १३—पत्र ७७६; विवा  
१, ७—पत्र ७५; परह १, ३—पत्र ५४;  
कस) ।

वाहिणी ली [वाहिनी] १ नदी (धर्मवि ३) । २  
सेना, लश्कर; 'सेणा वरुहिलो वारिलो यणीअं  
चमू सिन्' (पाप्र) । ३ सेना-विशेष, जिसमें  
८१ हाथी, ८१ रथ, २४३ घोड़े और ४०५  
प्यादें हों वह सैन्य (पउम ५६, ६) । °णाह  
पुं [नाथ] सेना-पति (किरात १३) । °स  
पुं [श] वही (किरात ११) ।

वाहित्त वि [व्याहृत] १ उक्त, कथित (हे  
१, १२८; २, ६६; प्राप्र) । २ आहृत, शब्दित  
(पाप्र; उत्त १, २०) ।  
वाहित्ति ली [व्याहृति] १ उक्ति, वचन ।  
२ आह्वान (अच्यु २) ।  
वाहिपं देखो वाहर ।  
वाहिम देखो वाह = वाहय ।  
वाहियाली ली [वाहाली] अश्व खेलेने की  
जगह (स १३; सुपा ३२७; महा) ।  
वाहिल्ल वि [व्याधिमन्] रोगी (वन्म ८  
टी) ।  
वाही देखो वाह = व्याध ।  
वाहुडिअ वि [दे] गत, चलित; 'तो वाहुडिअ  
जवेण' (कुप्र ४५८) । देखो वाहुडिअ ।  
वाहुय देखो वाहित्त = व्याहृत (श्रीप) ।  
वि देखो अवि = अपि (हे २, २१८; कुमा; ना  
११; १७; २३; कम्म ४, १६; ६०; ६६;  
रंभा) ।  
वि अ [वि] इन अर्थों का सूचक अग्रय—  
१ विरोध, प्रतिपक्षता; 'विगहा',  
'विओण' (ठा ४, २; गच्छ १, ११; सुर  
२, २१५) । २ विरोध; 'विउस्सिय'  
(सुप्र १, १, २, २३; भग १, १ टी) । ३  
विषयता; 'विपदखमाण', 'विउस्सण'  
(ओघना १८८; भग १, टी; भावम) । ४  
कुत्सा, खारवी; 'विह्व' (उप ७२८ टी) ।  
५ अनाव; 'विइएह' (ने २, १०) । ६ महत्त्व;  
'विएअ' (गउड) । ७ भिन्नता; 'विएस' (महा) ।  
८ ऊँचाई, ऊँचता; 'विन्नेव' (ओघना  
१६३) । ९ पादपुत्ति (पउम १७, ६७) । १०  
पुं. पत्नी (से १, १, सुर १६, ७३) । ११ वि.  
उद्दीपक, उत्तेजक । १२ अवबोधक, ज्ञापक;  
'सम्मं सन्मत्तवियासडं वरं विसड भवियाण'  
(विवे १४३) ।  
वि देखो वि = द्वि; 'ते पुण होज्ज विह्वया  
कुम्मापुत्तादओ जहन्नेण' (वित्ते ३१६६) ।  
वि वि [विद्] जानकार, विज्ञ (आवा;  
वित्ते ५००) । °उच्छा ली [जुगुप्सा]  
विद्वान् की निन्दा, साधु की निन्दा (आ ६  
टी—पत्र ३०) ।  
विं ली [विप्] पुरीष, विद्या (परह २,  
१—६६; संति २, श्रीप; वित्ते ७८१) ।

विअ सक [विद्] जानना । विअसि (विसे १६००) । भवि. विच्छं, वेच्छं (वि ५२३; ५२६; प्राप्र; हे ३, १७१) । वकृ. विअंत (रंभा) । संक्र. विइत्ता, विइत्ताणं, विइत्तु (आना; दस १०, १४) ।

विअ न [वियन्] आकाश, गगन (से ६, ४८) । चर वि [चर] आकाश-विहारी । चरपुर न [चरपुर] एक विद्याधर-नगर (इक) ।

विअ वि [विद्] १ जानकार, विद्वान्; 'तं च भिक्षु परित्राय विषं तेमु न मुच्यए' (सूत्र १, १; ४, २) । २ विज्ञान, जानकारी (राज) ।

विअ देखो इव (हे २, १२२; प्राप्र; स्वप्न २७; कुमा; पउम ११, ८१; महा) ।

विअ पुं [वृक] श्वापद जन्तु-विशेष, भेड़िया (नाट—उत्तर ७१) ।

विअ पुं [व्यय] विगम, विनाश; 'पंचविहे देयणे पन्नत्तं, तं जहा—उप्यादेयणे वियच्छे-दणे' (ठा ५, ३—पत्र ३४६) ।

विअ वि [विगत] विनष्ट, मृत । °आ छो [°आ] मृत आत्मा का शरीर (ठा १—पत्र १६) ।

विअ देखो अविअ = अपिच (जीव १) ।

विअइ वि [विजयिन्] जिस्की जीत हुई हो वह (भा २२) ।

विअइ छो [विगति] विगम, विनाश (ठा १—पत्र १६) ।

विअइ देखो विगइ = विकृति (ठा १—पत्र १६; राज) ।

विअइत्ता देखो विअत्त = वि + वर्त्तय् ।

विअइह पुं [विचक्रिण] १ पुष्प-वृक्ष विशेष । २ न. पुष्प-विशेष (हे १; १६६; कण्प; वा २३; कुमा) । ३ वि. विकच, विकसित (सण) ।

विअओलिअ वि [दे] मलिन (दे ७, ७२) ।

विअंग सक [व्यङ्ग्य] अंग से हीन करना—हाथ, कान आदि को काटना । विअंगेइ (गाया १, १४—पत्र १८५) ।

विअंग वि [व्यङ्ग] अंग-हीन; 'वियंगमंगा' (परह १, १—पत्र १८) ।

विअंगिअ वि [दे] निन्दित (दे ७, ६९) ।

विअंगिअ वि [व्यङ्गित] खरिडत, छिन्न (परह १, ३—पत्र ४५; टी—पत्र ४६) ।

विअंजण देखो वंजण = व्यञ्जन (प्राकृ ३१; सम्म ७२) ।

विअंजिअ वि [व्यञ्जित] व्यक्त किया हुआ, प्रकट किया हुआ (सूत्र २, १, २७; ठा ५, २—पत्र ३०८) ।

विअंटूत वि [दे] १ प्रवरोपित । २ मुक्त (पड १७७) ।

विअंति छो [व्यन्ति] अन्त किया । °कारय वि [°कारक] अन्त-क्रिया करनेवाला, कर्मों का अन्त करनेवाला, मुक्ति-साधक (आचा १, ८, ४, ३) ।

विअंभ अक [वि + जृम्भ्] १ उत्पन्न होना । २ विकसना । ३ जंभाई खाना । विश्रंभइ (हे ४, १५७; पड; भवि) । वकृ. विअंभंत, विअंभमाण (घात्वा १५२; से १, ४३; गा ४२५; महा) ।

विअंभ वि [विद्भम्भ] निष्कपट, सत्य; 'अया-णयं वियंभमुहस्त' (स ६६०) ।

विअंभण न [विजृम्भण] १ जंभाई, जम्हाई (स ३३६; सुपा १४६) । २ विकास । ३ उत्पत्ति (भवि; माल ८४) ।

विअंभिअ वि [विजृम्भित] १ प्रकाशित (गा ५६४) । २ उत्पन्न (माल ८६) । ३ न. जंभाई (गा ३५२) ।

विअंसण वि [वियसन] वध्न-रहित, नग्न (प्राकृ ३२) ।

विअंसय पुं [दे] व्याघ, बहेलिया (दे ७, ७२) ।

विअक सक [वि + तर्कय] विचारना, विमशं करना, मोमांसा करना । वकृ. विय-कंत, वियकमाण (सुपा २६४; उव २२० टी) ।

विअक पुंछो [वितर्क] विमशं, मोमांसा (श्रौप; सम्मत १४१) । छो. °आ (सूत्र १, १२, २१; पउम ६३, ६) ।

विअकिय वि [वितर्कित] विमशित, विचारित (सण) ।

विअकल सक [वि + ईक्ष्] देखना । वकृ. वियकलमाण (श्रौपभा १८८) ।

विअकखण वि [विचक्षण] विद्वान्, परिडत, दक्ष (महा; प्रासू ४१; भवि; नाट—वेणी २४) ।

विअग्ग वि [व्यग्र] व्याकुल (प्राकृ ३१) ।

विअग्घ देखो वग्घ = व्याग्र; '—महिसवि (?विय)ग्घलगलदीविया—' (परह १, १—पत्र ७; पि १३४) ।

विअग्घ पुं [वैयात्र] व्यात्र-शिशु (परह १, १—पत्र १८) ।

विअज्जास देखो विवज्जास (नाट—मृच्छ ३२६) ।

विअट्ट सक [विसं + वद्] अप्रमाणित करना, असत्य सावित करना । वियट्टइ (हे ४, १२६) ।

विअट्ट अक [वि + वृत्] विचरना, विहरना । वकृ. 'गिम्हसमयंति पत्ते वियट्ट-माणे (सु?) वयेसु वणकरेणुविहिहदिएण-कयपंसुघामो तुमं' (गाया १, १—पत्र ६५) ।

विअट्ट वि [विवृत्त] निवृत्त, व्यावृत्त; 'विग्र-दृहजमेणं जिणेणं' (सम १; भग; कण्प; श्रौप; पडि) । °भोइ वि [°भोजिन्] प्रतिदिन भोजन करनेवाला (भग) ।

विअट्ट पुं [विवर्त] प्रपञ्च (स १७८) ।

विअट्ट } वि [विसंवदित] संवाद-रहित,  
विअट्टिअ } अप्रमाणित; 'विअट्टं विसंवदं' (पात्र; कुमा ६, ८८) ।

विअट्ट वि [विकृष्ट] १ दूर-स्थित । २ क्वि. दूर (गाया १, १ टी—पत्र १) ।

विअड सक [वि + कटय] १ प्रकट करना । २ शालोचना करना । वियडेइ (ठा १० टी—पत्र ४८५) । कवकृ. वियडिज्जंत (राज) ।

विअड वि [व्यर्द्ध] लज्जित, लज्जा-युक्त (गाया १, ८—पत्र १४३) ।

विअड वि [वियृत्] खुला हुआ, अनावृत (ठा ३, १—पत्र १२१; ५, २—पत्र ३१२) । °गिह न [°गृह] चारो तरफ खुला घर, स्थान-मण्डपिका (कण्प; कस) । °जाण न [°यान] खुला वाहन, ऊपर से खुला यान (गाया १, १ टी—पत्र ४३) ।



विअड न [दे] ? प्रासुक जल, जीव-रहित पानी (सूत्र १, ७, २१; ठा ३, ३—पत्र १३८; ५, २—पत्र ३१३; सम ३७; उत २, ४; कप्प) । २ मद्य, दारु (पिंड २३६) । ३ प्रासुक आहार, निर्दोष आहार; 'जं किचि पावगं भगवं तं अरुक्वं वियडं भुजित्वा' (आचा १, ६, १, १८), 'वियडगं भोच्चा' कप्प) ।

विअड वि [विकृत] विकार-प्राप्त (आचा; उत २, ४; कस; पि २१६) ।

विअड वि [विकट] ? प्रकट, खुला (सूत्र १, २, २, २२; पंचा १०, १८; पव १५३) । २ विशाल; विस्तीर्ण; 'अक्रोतायंतपम-गंभीरवियडनाभे' (उवा; श्रौप; गा १०३; गउड) । ३ सुन्दर, मनोहर (गउड) । ४ प्रभूत, प्रचुर (सूत्र २, २, १८) । ५ पुं. एक ज्योतिष्क महाग्रह (ठा २, ३—पत्र ७८; सुज २०) । ६ एक विद्यावर-राजा (पउम १०, २०) । ७ भोइ वि [भोजिन्] प्रकाश में भोजन करनेवाला, दिन में ही भोजन करनेवाला (सम १६) । ८ वइ, ९ वाइ पुं [पातिन्] पर्वत-विशेष (ठा ४, २—पत्र २२३; इक; ठा २, ३—पत्र ६६; ८०) ।

विअड अक [विकटय] विस्तीर्ण होना । वियडेइ (गउड ११६८) ।

विअडण वीन [विकटन] ? अतिचारों की आलोचना । २ स्वाभिप्राय-निवेदन (पंचा २, २७) । स्त्री. णा (श्रौष ६१३; ७६१; पिंडभा ४१; श्रावक ३७६; पंचा १६, १६) ।

विअडी वी [वितटी] ? सराव किनारा । २ अटवी, जंगल (गाया; १—पत्र ६३) ।

विअड्ठि वी [वितदि] वेदिका, हवन-स्थान, वेदी, चौतरा (हे २, ३६; कुमा; प्राप्र) ।

विअड्ठ वि [विदग्ध] ? निद्रण, कुशल । २ परिणत, विद्वान् (हे २, ४०; गउड; महा) ।

विअड्ठक वि [विकर्षक] खींचनेवाला; 'महाधणुवियट्ट (ट्टु)का' (परह १, ४—पत्र ७२) ।

विअड्ठा वी [विदग्धा] नायिका का एक भेद (कुमा) ।

वियडिडम पुंस्त्री [विदग्धता] ? निपुणता । २ परिणत (कुप्र ४०५; वज्जा १३४) ।

विअण पुंन [व्यजन] देना, पंखा (प्राप्र; हे १, ४६; परह १, १—पत्र ८) ।

विअण वि [विजन] निर्जन, जन-रहित; 'लघंति वियणकारण' (भवि) ।

विअणा वी [वेदना] ? ज्ञान । २ सुख-दुःख आदि का अनुभव । ३ विवाह । (प्राप्र; हे १, १४६) । ४ पीड़ा, दुःख, संताप (प्राप्र, गउड; कुमा) ।

विअणिय वि [वितनित, वितत] विस्तीर्ण (भवि) ।

विअणिय वि [विगणित] अनाहत, तिरस्कृत (भवि) ।

विअण्ण वि [विपन्न] मृत (गा ५४६) ।

विअण्ह वि [वितृष्ण] वृष्णा-रहित (गा ६३) ।

विअत्त तक [वि + वर्त्तय] घूम कर जाना । संक. वियत्तूप, वियइत्ता, विउत्ता (आचा १, ८, १, २) ।

विअत्त वि [व्यक्त] ? परिस्फुट (सूत्र १, १, २, २५) । २ अमुग्ध, विवेकी (सूत्र १, १, २, ११) । ३ वृद्ध, परिणत-वयस्क; 'एिगंग्याणं सखुडुयविअत्ताणं' (सम ३५) । ४ पुं. भगवान् महावीर का चतुर्थ गणवर—प्रमुख शिष्य (सम १६) । ५ गीतार्थ मुनि (ठा ४, १ टी—पत्र २००) । ६ किच्च न [कृत्य] गीतार्थ का कर्तव्य—अनुष्ठान (ठा ४, १ टी) ।

विअत्त वि [विदत्त] विशेष रूप से दिया हुआ (ठा ४, १ टी—पत्र २००) ।

विअत्त पुं [विवर्त] एक ज्योतिष्क महाग्रह (ठा २, ३ टी—पत्र ७६; सुज्ज १६ टी—पत्र २६६) ।

विअद् वि [वितर्द] हिंसक (आचा १, ६, ४, ५) ।

विअट्ट देखो विअड्ठ = विदग्ध (पच ६०; नाट—मालती ५४) ।

विअन्नु देखो विन्नु (सडि ८) ।

विअप्प सक [वि + कल्पय] ? विचार करना । २ संशय करना । वियप्पइ, विअप्पेइ

(भवि, गा ४७६) । वक्क. वियप्पंत (महा) । क्क. वियप्प (उप ७२८ टी) ।

विअप्प पुं [विकल्प] ? विविध तरह की कल्पना; 'तं जयइ विरुद्धं पिव वियप्पजालं कइंदाण' (गउड) । २ वितर्क, विचार (महा) । ३ भेद, प्रकार; 'द्ववट्टिओ अ पज-वनओ अ, सेसा विअप्पा सि' (सम्म ३) । देखो विगप्प = विकल्प ।

विअप्पण न [विकल्पन] ऊपर देखो; 'एगंतुच्छेग्रम्मि वि सुहदुक्खविअप्पणमजुत्तं' (सम्म १८; स ६८४) ।

विअप्पणा वी [विकल्पना] ऊपर देखो (धम्मसं २१०) ।

विअव्भ देखो विदव्भ (प्राक्क ३८; पउम २६, ८) ।

विअम्ह देखो विअंभ = वि + जूम्म् । विअ-म्हइ (प्राक्क ६४) ।

विअय देखो विजय = विजय (श्रौप; गउड) ।

विअय वि [वितत] ? विस्तीर्ण, विशाल (महा) । २ प्रसारित, फैलाया हुआ (विसे २०६१; श्रावक २०३) । ३ पक्खि पुं [पक्षिन्] मनुष्य-लोक से बाहर रहनेवाले पक्षी की एक जाति; 'नरलोगाओ वाहि समुग्गपक्खी विअयक्खी' (जी २२) । देखो वितत = वितत ।

विअर सक [वि + चर्] विहरना, घूमना-फिरना । विअरइ (गउड ३८८) ।

विअर सक [वि + तृ] देना, अर्पण करना । विअरइ (कस; भवि), विअरेज्जा. (कप्प) । कर्म. वियरिज्जइ (उत १२, १०) । वक्क. वियरंत (काल) ।

विअर पुं [दे] ? नदी आदि जलाशय सूख जाने पर पानी निकालने के लिए उसमें किया जाता गर्त, गुजराती में 'वियडो' (ठा ४, ४—पत्र २८१; गाया १, १—पत्र ६३; १, ५—पत्र ६६) । २ गर्त, खड्ड; 'तत्थ गुलस्स जाव अन्नेसि च वहुणं जिडिभदिय-पाउगाणं दव्वाणं पुंजे य निकरे य करंति, करेत्ता वियरण खणति' 'वियरे भरंति' (गाया १, १७—पत्र २२६) ।

विअरण न [विचरण] विहार, चलना-फिरना (अजि १६) ।

विअरण न [वितरण] प्रदान, अर्पण, (पंचा ७, ६; उप ५६७ टी; सण) ।

विअरिय वि [विचरित] जिसने विचरण किया हो वह, विहृत (महा); 'विमलीकयम्ह चक्कू जह्यथा दियरिया गुणा तुज्म' (पिड ४६३) ।

विअल अक [मुज्] मोड़ना; वक्र करना । विअलइ (धात्वा १५२) ।

विअल अक [वि + गल्] १ गल जाना, क्षीण होना । २ टपकना, भरना । वक्र. विअलंत (गा ३६८; सुर ५, १२७) ।

विअल अक [ओज्य] मज्जत होना (संलि ३५) ।

विअल वि [विकल] १ हीन, असंपूर्ण (परह १, ३—पत्र ४०) । २ रहित, वजित, वन्ध्य (सा २) । ३ विह्वल, व्याकुल; 'विअलुद्धरणसहावा हुवंति जइ केवि सप्पुरिसा' (गा २८५) । देखो विगल = विकल ।

विअल सक [विकलय] विकल बनाना । विअलई (सण) ।

विअल देखो विअड = विकट (से ८, २१) ।

विअल देखो विदल = द्विदल (संबोध ४४) ।

विअलवल वि [दे] दीर्घ, लम्बा (दे ७, ३३) ।

विअलिअ वि [विगलित] १ नाश-प्राप्त, नष्ट (से २, ४५; सण) । २ पतित, टपक कर गिरा हुआ; 'विअलिअ उचत' (पात्र) ।

विअल अक [वि + चल] १ क्षुब्ध होना । २ अव्यवस्थित होना; 'खलइ जोहा, मुहवयणु विअल्लइ' (भवि) ।

विअस अक [वि + कस्] खिलना । विअसइ (प्राक ७६; हे ४, १६५) । वक्र. विअसंत, विअसमाण (श्रौप; सुपा २०) ।

विअसावय वि [विकासक] विकसित करनेवाला (गउड) ।

विअसाविअ वि [विकासित] विकसित किया हुआ (सुपा २२५) ।

विअसिअ वि [विकसित] विकास-प्राप्त (गा १३; पात्र; सुर २, २२२; ४, ५८; श्रौप) ।

विअह देखो विजह = वि + हा । संकृ. विअहिचु (आचा १, १, ३, २) ।

विआउआ वी [विपादिका] रोग-विशेष, विवाई, या वेवाई (दे ८, ७१) ।

विआउरी वी [विजनयित्री] ध्यानेवाली, प्रसव करनेवाली (आया १, २—पत्र ७६) ।

विआंगर देखो वांगर । वियांगरेड, वियांगरति (आचा २, २, ३, १; सूत्र १, १४, १८), वियांगरे, वियांगरेज्जा (सूत्र १, ६, २५; विसे ३३६; सूत्र १, १४, १६) । वक्र. वियांगरेमाण (आचा २, २, ३, १) ।

विआवाय देखो वावाय (आचा) ।

विआण सक [वि + ज्ञा] जानना, मालूम करना । वियाणइ, वियाणति (भग; गा ४८), वियाणसि (पि ५१०), वियाणहि, वियाणोहि (परण १—पत्र ३६; महा) । कर्म. वियाणजइ (सट्टि १६) । वक्र. वियाणंत, वियाणमाण (श्रौप; उव) । संकृ. वियाणिआ, वियाणिऊण, वियाणित्ता (दसव १, १८; महा; श्रौप; कप्प) । कृ. वियाणियव्य (उप पृ ६०) ।

विआण न [विज्ञान] जानकारी, ज्ञान; 'एक्कंपि भाय ! दुलहं जिणमयविहिरियणसुवियाण' (सट्टि १६) । देखो विज्ञाण ।

विआण न [वितान] १ विस्तार, फैलाव (गउड १७६; ३८६; ५६२) । २ वृत्ति-विशेष । ३ अक्षर । ४ यज्ञ (हे १, १७७; प्राप्र) । ५ पुंन. चन्द्रातप, चंदवा, आच्छादन-विशेष (गउड २००; ११८०; हे १, १७७; प्राप्र) ।

विआणग वि [विज्ञायक] जानकार, विज्ञ (उप पृ ११६) ।

विआणण न [विज्ञान] जानना, मालूम करना (स २६७; सुर ३, ७) ।

वियाणय देखो विआणग (सम्म १६०; भग; श्रौप; सुर ६, २१; सण) ।

विआणिअ पि [विज्ञात] जाना हुआ, विदित (स २६७; सुपा ३६१; महा; सुर ४, २१४, १२, ७१; पिग) ।

विआय सक [वि + जनय] जन्म देना, प्रसव करना; 'गुजराती में 'वियाडु'; 'वियायइ पढमं जं पिउगिहे नारी' (उप ६६८ टी) । संकृ. विआय (राज) ।

विआर सक [वि + कारय] विकृत करना । विआरेदि (शौ) (मा ५१) ।

विआर सक [वि + चारय] विचारना, विमर्श करना । विआरेड (प्राक ७१; भग), वियारिज्ज (सत्त ३६) । वक्र. वियारयंत (आ १६) । कवक. वियारिज्जंत (सुपा १४८) । संकृ. विआरिअ (अभि ४४) । कृ. विआरणिज्ज (आ १४) ।

विआर सक [वि + दारय] फाड़ना, चीरना । विआरे (अप) (पिग) । संकृ. वियारिऊण (श २६०) ।

विआर पुं [विकार] विकृति; प्रकृति का भिन्न रूपवाला परिणाम (हे ३, २३; गउड; सुर ३, २६; प्रासू ४६) ।

विआर पुं [विचार] १ तत्त्व-निर्णय (गउड; विचार १; दं १) । २ तत्त्व-निर्णय के अनुकूल शब्द-रचना (जो ५१) । ३ ख्याल, सोच; 'अएणो वक्करकालो अएणो कज्जिअरकालो' (कप्प) । ४ दिशा-फरागत के लिए बाहर जाना (पव २; १०१) । ५ गमन की अनुकूलता (पव १०४) । ६ विचरण । ७ अवकाश; 'अंतेउरे य दिरणवियारे जाते यावि होत्या' (विपा १, ५—पत्र ६३) । ८ विमर्श, मोमांसा । ९ मत. अभिप्राय (भवि) । १० धयल पुं [धयल] एक राजा का नाम (उप ७२८ टी; महा) । ११ भूमि वी [भूमि] दिशा-फरागत जाने का स्थान (कप्प; उप १४२ टी) ।

विआरण न [विचारण] १ विचार करना (सुपा ४६४; सार्व ६०) । २ वि. विचार करनेवाला; 'जय जिणनाह समत्यवत्थुपरमत्य-वियारण' (सुपा ५२) । ३ वि. विचरण करनेवाला; 'अंवरंतरविआरणिआहि' (अजि २६) ।

विआरण न [विदारण] चीरना, फाड़ना (सार्व ४६; स २४१) ।

विआरण देखो वागरण (कुप्र २४५) ।

विआरण वि [विदारण] विदारण-संबन्धी, विदारण से उत्पन्न होनेवाला । वी. ँणिआ (नव १६) ।

विआरणा वी [विचारणा] विचार, विमर्श (उप ७२८ टी; स २४७; पंचा ११, ३४) ।

विआरणा स्त्री [वितारणा] विप्रतारणा,  
ठगाई (उप ६१६) ।

विआरय वि [विचारक] विचार करनेवाला  
(पउम ८, ५) ।

विआरि वि [विचारिन्] ऊपर देखो (श्रौप) ।

विआरिअ वि [विचारित] जिसका विचार  
किया गया हो वह (दे १, १६८) ।

विआरिअ वि [विदारित] १ खोला हुआ,  
फाड़ा हुआ; 'दूरविचारिअमुहं महाकार्यं—  
सीहं' (एमि १२) । २ विदीर्ण किया हुआ,  
चीरा हुआ (भवि) ।

विआरिअ वि [वितारित] १ अर्पित, दिया  
गया; 'वालि या सितोहरा वियारिया दिट्ठी'  
(स ३३७) । २ ठगा हुआ; विप्रतारित; 'जइ  
पुरा धुत्तण अहं वियारिओ' (सुपा ३२४) ।

विआरिआ स्त्री [दे] पूर्वाह्न का भोजन (दे  
७, ७१) ।

विआरिअ १ वि [विकारवत्] विकारवाला,  
विआरुअ १ विकारयुक्त (प्राप्त; हे २,  
१५६) । स्त्री. °ह्ला (सुपा १६४) ।

विआल देखो विआल = वि + चारय् । वकृ.  
वियालंत (उवर ८२) ।

विआल देखो विआर = वि + वारय् । कृ.  
वियालगिय (सूअनि ३६; ३७) ।

विआल पुं [विकाल] सन्ध्या, सांन, सायंकाल  
(दे ७, ६१; कप्पु; विपा १, ५—पत्र ६३;  
हे ४, ३७७; ४२४; कस, भवि) । चारि वि  
[°चारिन्] विकाल में घूमनेवाला (एगाया  
१, १—पत्र ३८; १, ४; श्रौप) ।

विआल पुं [दे] चोर, तस्कर (दे ७, ६०) ।

विआल वि [व्याल] दुष्ट; 'भोएणं वियालं  
पडिपहे पेहाए, महिअं वियालं पडिपहे पेहाए,  
चित्ताचेत्तरयं वियालं पडिपहे पेहाए' (आचा  
२, १, ५, ४) । देखो बाल = व्याल ।

विआल देखो विचाल (राज) ।

विआलग देखो विआलय = विकालक (ठा  
२, ३—पत्र ७७) ।

विआलग देखो विआरण = विचारण (श्रौप  
६६; कित्ते १७६; पिड ५६७) ।

विआलजा देखो विआरणा = विचारणा (कित्ते  
३४० टी; पिड ५६७) ।

विआलय वि [विदारक] विदारण-कत्तो  
(सूअनि ३६) ।

विआलय पुं [विकालक] एक महागह,  
ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज २०) ।

विआलिउ न [दे] व्याल, सायंकाल का  
भोजन; 'जा मह पुत्तह करयलि लग्गइ सा  
अमिएण वियालिउ मग्गइ' (भवि) ।

विआलुअ वि [दे] असहन, असहिष्णु (दे  
७, ६८) ।

विआव सक [वि + आप्] व्याप्त करना  
(प्राप्त) ।

विआवड देखो वावड = व्यापृत (श्रौपभा  
१६६; पउम २, ६) ।

विआवत्त पुं [व्यावर्त्त] १ शोप और महाशोप  
इत्रों के दक्षिण दिशा के लोकपाल (ठा ४,  
१—पत्र १६८; इक) । २ ऋजुवालिका नदी  
के तीर पर स्थित एक प्राचीन चैत्य (कप्प) ।  
३ पुंन. एक देव-विमान (सम ३२) ।

विआवाय पुं [व्यापात] अंश, नाश (आचा  
१, ३, ५, ६ टि) ।

विआविअ देखो वावड = व्यापृत (वमसं  
६७६) ।

विआस पुं [विकारा] १ मुँह आदि की फाड़—  
खुलापन, 'धूलं वियासं मुहे' (सूअ १, ५, २,  
३) । २ अवकाश (गउड २०१) ।

विआस पुं [विकास] प्रफुल्लता (पि १०२;  
भवि) ।

विआस देखो वास = व्यास (राज) ।

विआसइत्तअ (शौ) वि [विकासयितृक]  
विकसित करनेवाला (पि ६००) ।

विआसग वि [विकासक] ऊपर देखो (सुपा  
६५८) ।

विआसर वि [विकस्वर] विकसनेवाला,  
प्रफुल्ल (पड्) ।

विआसि } वि [विकासिन्] ऊपर देखो  
विआसिअ } (पि ४०५; सुपा ४०२; ६) ।

विआह सक [व्या + ख्या] व्याख्या करना ।  
कर्म. विआहिज्जंति (एंडि २२६) ।

विआह पुं [विनाह] १ व्याह, परिणयन,  
शादी (गा ४७६; नाउ—मालती ६) । २  
विविध प्रवाह । ३ विशिष्ट प्रवाह । ४ वि.  
विशिष्ट संतानवाता (भग १, १ टी) ।

°पण्णात्ति स्त्री [°प्रज्ञप्ति] पांचवां जैन श्रंग-  
ग्रन्थ (भग १, १ टी) ।

विआह वि [विनाध] वाध-रहित (भग १,  
१ टी) । °पण्णात्ति स्त्री [°प्रज्ञप्ति] पांचवां  
जैन श्रंग-ग्रन्थ (भग १, १ टी) ।

विआह° स्त्री [व्याख्या] १ विशद रूप से  
अर्थ का प्रतिपादन । २ वृत्ति, विवरण ।

°पण्णात्ति स्त्री [°प्रज्ञप्ति] पांचवां जैन श्रंग-  
ग्रन्थ (भग १, १ टी) ।

विआहिअ वि [व्याख्यात] १ जिसकी  
व्याख्या की गई हो वह, वरिष्ठ (आ २२) ।

२ उक्त, कथित; 'स एव भव्वसत्ताएणं चक्खुभूए  
विआहिए' (गच्छ १, २६; भग) ।

विइ स्त्री [वृत्ति] रज्जु-वचन (श्रौप) । देखो  
वइ = वृत्ति ।

विअइ वि [विदित] ज्ञात, जाना हुआ (पाम्र;  
पिड ८२; संवोव ४६; स १६२; महा) ।

विइइअ देखो विइकिण्ण (भग १, १ टी—  
पत्र ३७) ।

विइंचिअ वि [विविक्त] विनाशित (स  
१२५) ।

विइंत सक [वि + कृत्] काटना, छेदना ।  
विइंतेइ (एगाया १, १४ टी—पत्र १८७) ।

विइंत देखो विचित् । वकृ. विइंतंत (गउड  
६७८) ।

विइकिण्ण वि [व्यतिकीर्ण] व्याप्त, फैला  
हुआ (भग १, १—पत्र ३६) ।

विइकंत वि [व्यतिक्रान्त] व्यतीत, गुजरा  
हुआ (ठा ६—पत्र ४४५; उवा; कप्प) ।

विइगिअ } देखो वित्तिगिअ (आचा;  
विइगिअ } कस; उवा) ।

विइगिअ वि [व्यतिकृष्ट] दूर-स्थित, विप्रकृष्ट  
(वृह १) ।

विइगिण्ण देखो विइकिण्ण (कस) ।

विइजंत देखो वीअ = बीजय् ।

विइजंत देखो विकिर ।

विइण्ण वि [विकीर्ण] १ खिलरा हुआ;  
'विइण्णकेली' (उवा) । २ विनिस, फंका  
हुआ (स १०, ३) । देखो विकिण्ण, विकिअ ।

विइण्ण वि [वित्तीर्ण] दिया हुआ, अर्पित  
(गा ३४६; ६१७; स ८, ६५; १०, ३; हे  
४, ४४४; महा) ।

विङ्गह वि [वितृष्ण] वृष्णा-रहित, निःस्पृह (सि २, १०; प्राप्रः गा ६३; १७६)।  
 विङ्गत्त देखो विचिन्त (गउड; स २३६; ७४०)।  
 विङ्गत्त देखो विविन्त (स ७४०)।  
 विङ्गत्ता } देखो विअ = विद्।  
 विङ्गत्ताणं }  
 विङ्गत्तिद (शौ) देखो विचिन्तिय (स्वप्न ३६)।  
 विङ्गत्तु देखो विअ = विद्।  
 विङ्गन्न देखो विङ्गण = वितीर्ण (सुर ४, ११)।  
 विङ्गमिरस वि [व्यतिमिश्र] मिश्रित, मिला हुआ (आचा)।  
 विङ वि [विद्, विद्दस्] विद्वान्, परिउत्त, जानकार (राया १, १६; उप ७६८ टी; सुर १, १३५; सूत्र २, १, ६०; रंभा)।  
 °पकड ली [°प्रकृत] १ विद्वान् द्वारा प्रकान्त। २ विद्वान् द्वारा किया हुआ (भग ७, १० टी—पत्र ३२५; १८, ७—पत्र ७५०)।  
 विउअ वि [वियुत्त] वियुक्त, रहित; 'द्वन् पज्जवविउअं दव्व-विउत्ता य पज्जवा नत्थि' (सम्म १२)।  
 विउअ वि [विउत्त] १ विस्तृत। २ व्याख्यात (हे १, १३१)।  
 विउअ (अप) देखो विओअ = वियोग (हे ४, ४१६)।  
 विउंअिआ ली [दे. विचर्चिका] रोग-विशेष, पामा रोग का एक भेद; 'केवि विउंअिअपामा-समन्निया सेवगा तस्स' (सिदि ११७)।  
 विउंअ सक [वि + युज्] विशेष रूप से जोड़ना। विउंअति (सूत्र २, २, २१)।  
 विउंअति ली [व्युत्क्रान्ति] उत्पत्ति; 'अ-विउंअतियं चयमाणे' (भग १, ७)।  
 विउंअति ली [व्युत्क्रान्ति, व्यवक्रान्ति] मरण, मौत (भग १, ७)।  
 विउंअम सक [व्युत् + क्रम्] १ परित्याग करना। २ उल्लंघन करना। ३ अक. च्युत होना; नष्ट होना, मरना। ४ उत्पन्न होना।  
 विउंअमति (भग; ठा ३, ३—पत्र १४१)।  
 संक्र. विउंअम (सूत्र १, १, १, ६; उत्त ५; १५; आचा १, ८, १, २)।

विउंअस सक [व्युत् + कर्षय्] गर्व करना, बड़ाई करना। विउंअसेजा, (सूत्र १, १३, ६), विउंअसे (आचा १, ६, ४, २)।  
 विउंअसस पुं [व्युत्कर्ष] गर्व, अभिमान (सूत्र १, १, २, १२)।  
 विउंअल्ला देखो वि-उच्छा = विद-जुगुप्सा।  
 विउंअल्लेअ पुं [व्यवच्छेद] विनाश (पंचा १७, १८)।  
 विउंअम अक [व्युद् + यम्] विशेष उद्यम करना। वक्र. 'धणिअपि विउंअमंताणं' (पउम १०२, १३७)।  
 विउंअम अक [वि + युध्] जागना। विउंअमइ (भवि; सण)।  
 विउंअ सक [वि + कुट्टय्] विच्छेद करना, विनाश करना। हेक. विउंअत्तिए (ठा २, १—पत्र ५६; कस)।  
 विउंअ सक [वि + त्रोटय्] तोड़ डालना। विउंअइ (सूत्र २, २, २०)। हेक. विउंअत्तिए (ठा २, १—पत्र ५६)।  
 विउंअ अक [वि + वृत्] १ उत्पन्न होना। २ निवृत्त होना। विउंअति (सूत्र २, ३, १), विउंअजा (ठा ८ टी—पत्र ४१८)।  
 विउंअ सक [वि + वर्तय्] १ विच्छेद करना। २ घूमकर जाना। विउंअति (स १७८)। संक्र. विउंअणं (आचा १, ८, १, २)। हेक. विउंअत्तिए (ठा २, १—पत्र ५६)।  
 विउंअ देखो विअट्ट = विवृत्त (कप्प)।  
 विउंअण न [वियर्तन] निवृत्ति (ओष ७६१)।  
 विउंअण न [विकुट्टन] १ विच्छेद। २ आलोचना; अतिचार-विच्छेद (ओष ७६१)। ३ वि. विच्छेद-कर्ता (धर्मसं ६६६)।  
 विउंअणा ली [विकुट्टना] १ विविध कुट्टन। २ पीड़ा, संताप (सूत्र १, १२, २१)।  
 विउंअट्टिअ वि [व्युत्थित] जो विरोध में खड़ा हुआ हो वह, विरोधी बना हुआ (सूत्र १, १४, ८)।  
 विउंअ सक [वि + नाशय्] विनाश करना। विउंअइ (हे ४, ३१)। कर्म. विउंअज्जति (स ६७६)।

विउंअण न [विनाशन] १ विनाश (स २७; ६६१)। २ वि. विनाश-कर्ता (स ३७; २८२)।  
 विउंअिअ वि [विनाशित] नष्ट किया गया (पामा; कुमा; उप ७२८ टी)।  
 विउंअ वि [विगुण] गुण-रहित, गुण-हीन (दे ६, ७८)।  
 विउंअ वि [वियुक्त] विरहित, वियोग-प्राप्त (सुर ३, १२३; १०, १४५; सुपा ११०; काल; सण)।  
 विउंअ देखो विअत्त = वि + वर्तय्।  
 विउंअिअ देखो विउंअट्टिअ (कुप्र २२४; ३६६)।  
 विउंअ देखो विउअ = विवृत्त (प्राप्र)।  
 विउंअ वि [विउत्त] १ जागृत (सुपा १४०)। २ विकसित (स ७६८)।  
 विउंअकड वि [व्युत्प्रकट] अतिशय प्रकट—व्यक्त (भग ७, १० टी—पत्र ३२५)।  
 विउंअभाअ अक [व्युद् + भ्राज्] शोभना, दीपना, चमकना। वक्र. विउंअभाएमाण (भग ३, २—पत्र १७३)।  
 विउंअभाअ सक [व्युद् + भ्राजय्] शोभित करना। वक्र. विउंअभाएमाण (भग ३, २)।  
 विउंअ वि [विद्दस्] विद्वान्, विज्ञ; 'विउंअं ता पयहिज्ज संयवं' (सूत्र १, २, २, ११)।  
 विउंअ देखो विउंअ (वेणी १३४)।  
 विउंअ वि [विपुल] १ प्रभूत, प्रचुर। २ विस्तीर्ण, विशाल (उवा; श्रौप)। ३ उत्तम, श्रेष्ठ (भग ६, ३३)। ४ अगाध, गम्भीर (प्राप्र)। ५ पुं. राजगिर के समीप का एक पर्वत (पउम २, ३७)। 'जस पुं [°यशास्] एक जिनदेव का नाम (उप ६८६ टी)। 'मइ ली [°मति] मनःपर्यव नामक ज्ञान का एक भेद (कम्म १, ८; आवम)। २ वि. उक्त ज्ञानवाला (कप्प; श्रौप)। 'अरी ली [°अरी] विद्या-विशेष (पउम ७, १३८)। देखो विपुल।  
 विउंअ देखो विउंअव = वैक्रिय (कम्म ३, २)।  
 विउंअसिय देखो विओसिय = व्यवशमित (राज)।

विडवाय पुं [व्युत्पात] हिंसा, प्राणि-वध (सूत्र २, ४, ३)।  
 विडव्य सक [वि + कृ, वि + कुर्व् ] १ वनाना—दिव्य सामर्थ्य से उत्पन्न करना। २ अलंकृत करना। मण्डित करना। विडव्यद्, विडव्यए (भगः कण्यः महाः पि ५०८)। भूका विडविन्मु। भवि, विडविस्संति (भग ३, १—पत्र १५६), विडविस्सामि (पि ५३३)। वड्, विडव्यमाण (सुज २०)। कवड्, विडव्यज्जमाण (ठा १०—पत्र ४७२)। संकृ, विडव्यऊण, विडव्यऊणं, विडव्यत्ता, विडव्यउं (महाः पि ५८५; भगः कसः सुपा ४७)। हेकृ, विडव्यत्ताए (पि ५८८)।  
 विडव्य न [वैक्रिय] १ शरीर-विशेष, अनेक स्वरूपों और क्रियाओं को करने में समर्थ शरीर (पउम १०२, ६८; पव १६२; कम्म १, ३७)। २ कर्म-विशेष; वैक्रिय शरीर की प्राप्ति का कारण-भूत कर्म (कम्म १, ३३)। ३ वि, वैक्रिय शरीर से संबन्ध रखनेवाला (कम्म ४, २६)।  
 विडव्यणया } स्त्री [विक्रिया, विकुर्वणा]  
 विडव्यणा } १ वनावट, शक्ति-विशेष से किया जाता वस्तु-निर्माण (सूत्रनि १६३; श्रौपः पउम ११७, ३१; पत्र २३०)। २ शक्ति-विशेष, वैक्रिय-करण शक्ति (देवेन्द्र २३०)।  
 विडव्याढ वि [दे] १ विस्तोर्णं। दुःख-रहित (दे १, १२६)।  
 विडव्यि वि [वैक्रियिन्, विकुर्विन्] १ विकुर्वणा करनेवाला (उप ३५७ टी)। २ वैक्रिय-शरीरवाला (उत्त १३, ३२; सुख १३, ३२)।  
 विडव्यिअ वि [विकृत, विकुर्वित] १ निर्मित, बनाया हुआ (भगः महाः श्रौपः सुपा ८८)। २ अलंकृत, विभूषित (वृह १)।  
 विडव्यिअ वि [वैक्रियिक] वैक्रिय शरीर से संबन्ध रखनेवाला (कम्म ४, २४)। देखो वेडव्यिअ।  
 विडस सक [व्युत् + सृज्] फँकना। विडसिजा (आचा २, ३, २, ५), विडसिरे (आचा २, १६, १)।

विडस वि [विट्सू] विज्ञ, परिणत (पाग्रः उप पृ १०६; सुपा १०७; प्रासू ६३; भवि; महा), 'विडसेहि' (वेइय ७७४), 'विडसाण' (सम्मत्त २१६)।  
 विडसग देखो विओसग (हे २, १७४; पड्)।  
 विडसमण न [व्युपशमन, व्ययशमन] १ उपशम, उपशय। २ सुरत का प्रवसान; 'ता से रां पुरिसे विडसमणकालसमयंसि केरिसए सायासोत्तं पच्चणुग्भवमाणे विहरति' (सुज्ज २०; भग १२, ६—पत्र ५७८)। ३ वि, विनाशक; 'सव्वदुक्खपावाण विडसमणं' (पएह २, १—पत्र १००)।  
 विडसमणया स्त्री [व्ययशमना] उपशम, श्लेष-परित्याग (भग १७, ३—पत्र ७२६)।  
 विडसमिय देखो विओसमिय (राज)।  
 विडसरण न [व्युत्सर्जन] परित्याग (दंत १)।  
 विडसरणया स्त्री [व्युत्सर्जना] ऊपर देखो (भगः राया १, १—पत्र ४६)।  
 विडसव्य देखो विओसव्य। संकृ, विडसवेत्ता (कस १, ३५ टि)।  
 विडसवण देखो विडसमण (पएह २, ४—पत्र १३१)।  
 विडसविय देखो विओसविय (ठा ६—पत्र ३७०)।  
 विडसिजा देखो विओसिजा (आचा १, ६, २, २)।  
 विडसिरणया देखो विडसरणया (राय १२८)।  
 विडसस सक [वि + उश्] विशेष बोलना। विडसंति (सूत्र १, १, २, २३)।  
 विडसस अक [विट्सू] विद्वान् की तरह आचरण करना। विडसंति (सूत्र १, १, २, २३)।  
 विडससग देखो विओसग (भग १, ६; उत्त ३०, ३०)।  
 विडसिसत्त वि [व्युत्सित, व्युत्सिक्त] अग्निनिवृट्ट, कदाग्रह-शुक्ल (सूत्र १, १, १, ६)।  
 विडसिसय वि [व्युपित] विशेष रूप से रहा हुआ (सूत्र १, १, २, २३)।

विडसिसय वि [व्युत्सित] विविध तरह से आश्रित; 'संसारं ते विजस्सिया' (सूत्र १, १, २, २३)।  
 विडह सक [व्यूह्] प्रेरणा करना। संकृ, विडहित्ताण (दस ५, १, २२)।  
 विडह वि [वियुध] १ परिणत, विद्वान्। २ पुं, देव, सुर (हे १, १७७)। देखो वियुह।  
 विऊरिअ वि [दे] नष्ट, नाश-प्राप्त (दे ७, ७२)।  
 विऊसिर सक [व्युत् + सृज्] परित्याग करना; 'विऊसिरे विन्नु अगारवंचणं' (आचा २, १६, १)।  
 विऊह पुं [व्यूह्] रचना-विशेष (पंचा ८, ३०)।  
 विएअ वि [वितेजस्] महान् प्रकाय, 'अचंतविएएणवि गव्याण रा एण्वडंति संकप्पा। विज्जुज्जुयो बहलत्तेण मोहेइ अञ्छोई' (गडड)।  
 विएऊण अ [दे] चुनकर, 'सुयत्तारा विएऊण जेण नुवरयणमुत्तमं दिरण्णं' (पएण १—पत्र ४)।  
 विएस पुं [विदेश] १ देशान्तर, परदेश (सिरि ४६७; महा)। २ कुत्सित ग्राम, हराव गांव। ३ वन्यन-स्थान (गा ७६)।  
 विओअ पुं [वियोग] जुदाई, विछोह, विरह (स्वप्न ६३; अग्नि ४६; हे १, १७७; सुर ४, १५२; महा)।  
 विओइअ वि [वियोजित] जुवा किया हुआ (से ६, ७१; गा १३२; स ६८; सुर १५, २१७)।  
 विओग देखो विओअ (सुर २, २१५; ४, १५१; महा)।  
 विओगिय वि [वियोगित] वियोग-प्राप्त (धर्मावि १३१)।  
 विओज सक [वि + योजय्] अलग करना। वियोजयति (सूत्र १, ५, १, १६)।  
 विओजय वि [वियोजक] वियोग-कारक (स ७५०)।  
 विओदर पुं [वृकोदर] भीमसेन, एक पाण्डव (नाट—वेणी ३६)।  
 विओयण न [वियोजन] वियोग, विछोह (सुर ११, ३२)।

विओरमण न [व्युपरमण] विराधना, विनाश; 'दृक्कायविओरमण' (शोधभा १६०; शोध ३२६)।

विओल वि [दे] आनिग, उद्वेग-युक्त (दे ७, ६३)।

विओवाय पुं [व्यवपात] अंश, नाश (आचा; सूत्र १, ३, ३, ४)।

विओसगग पुं [व्युत्सर्ग] १ परिव्याग । २ तप-विशेष, निरोहण से शरीर आदि का त्याग (श्रौप)।

विओसमण देखो विउसमण (परह २, २—पत्र ११८; २, ५—पत्र १४६)।

विओसमिय वि [व्यवशमित] उपशान्त किया हुआ (कस ६, १ टि)।

विओसरणया देखो विउसरणया (श्रौप)।

विओसव सक [व्यस + शमय] उपशान्त करना, ठण्डा करना, दवा देना । संक, 'तं ग्रहिणरणं अ-विओसवेत्ता' (कस)।

विओसविय } देखो विओसमिय; 'अवि-  
विओसिय } ओसवियपाहुडे' (कस १,  
३५, ४, ५); 'विओसवियं वा पुणो उदीरि-  
त्तए' (कस ६, १; ४, ५ टि)।

विओसिज्जा अ [व्युत्सृज्य] परिव्याग कर (आचा १, ६, २, १)।

विओसिय वि [व्यवसित] पर्यवसित, समाप्त किया हुआ (सूत्र १, १, ३, ५)।

विओसिय वि [विक्रोशित] कोश-रहित, निरावरण, नंगा; 'विउ(?ओ)सियवरासि—' (परह १, ३—पत्र ४५)।

विओसिर देखो विऊसिर (पि २३५)।

विओह पुं [विवोध] जागरण, जागृति (भवि)।

विख न [दे] वाद्य-विशेष (राज)।

विचिणिअ वि [दे] १ पाटित, विदारित । २ घारा (दे ७, ६३)।

विचुअ पुं [वृश्चिक] जन्तु-विशेष, विच्छ (हे १, १२८, २, १६; ८६)।

विछ अक [वि + घट्] अलग होना । विछइ (प्राक ७१)।

विछिअ } देखो विचुअ (हे १, २६; २,  
विछुअ } १६; सुख ३६, १४८; पचम:  
३६, १७; प्राप्र; प्राक २३; गा २३७ अ)।

विजण देखो वंजण; 'तेत्तीसविजणइ' (चंड)।  
विजण देखो विअण = व्यजन; गुंजराती में 'विजणो' (रंभा २०)।

विफ पुं [विन्व्य] १ पर्वत-विशेष; विन्व्याचल (गा १२५; शाया १, १—पत्र ६४)। २ व्याच, वहेलिया (हे १, २५; २, २६; प्राप्र)। ३ एक जैन मुनि (विसे २५१२)। ४ एक अंष्टि-पुत्र (सुपा ५७८)।

विट सक [वेष्टय] वेष्टन करना, लपटना, गुंजराती में 'विटवु'; 'विटइ तं उज्जाणं हयगयरहसुहडकोडोहिं' (सुपा ५७३)। प्रयो, संक-विटाविउं (सुपा १८६)।

विट न [वृन्त] फल-पत्र आदि का कचन (हे १, १३६; प्राक ४; रंभा; प्रासू १०२)।  
विटल } न [दे] १ वशीकरण-विद्या,  
विटलिअ } अत्ताईपि कुंडलवि(?टलवि)-  
टलाइं करलापचाईं कम्माईं' (सिदि ५७)।  
२ निमित्त आदि का प्रयोग (वृह १); 'विटलि-  
आणि पउंजति' (गच्छ ३, १३)।

विटलिअ ली [दे] गठरी, पीटली; गुंजराती में 'विटलु'; 'ताव कुमरेण खितां तणुरया वव्यविटलिया', 'तीए विटलियाए' (सुपा २६१)।

विटिया ली [दे] १ गठरी, पीटली (सुख २, ५; उप १४२ टी)। २ मुद्रिका, अंगुलीयक, गुंजराती में 'वीटी'; 'उच्चारोवरि मुक्का कणयमयविटिया नियया' (सुपा ६११), 'पडिवत्ताओ मणिविदि(?टि)याहि तह अंगु-  
लीओ ति' (स ७६)।

वितर पुं [व्यन्तर] १ विच्छू आदि दुष्ट जन्तु (उप ५६४); 'दुट्टाण को न वीहइ वितर-  
सप्पाण व खलाणं' (वजा १२)। २ एक देव-जाति; 'निस्सुणाणं नराणं हि वितरा अवि किंकरा' (आ १२; दं २)।

वितांगी ली [वृन्ताकी] वैगन का गाछ विंद सक [विट्] १ जानना । २ प्राप्त करना; 'धम्मं च जे विदति तव्य तव्य' (सूत्र १, १४, २७)। वक. विंदमाण (शाया १, १—पत्र २६; विपा १, २—पत्र ३४)।

विंद देखो वंद = वृन्द (भवि; पि ३६८)।

विंदारग ) देखो वंदारय (सुपा ५०३; नाट—  
विंदारय ) शकु ८८)। वर पुं [वर] इन्द्र (सम्मत् ७५)।

विंदावण पुं [वृन्दावन] मथुरा का एक वन (ती ७)।

विंदुरिअ वि [दे] १ उज्ज्वल, देदीप्यमान । २ मंजुल घोषवाला, कल-कंठ । ३ विद्राण, म्लान । ४ विस्तृत; 'वंटाहि विंदुरिअसुर-  
तवणीविमाणाणुसारं लहंती' (कप्पु)।

विंद्र देखो वंद्र (प्राक ३६)।

विंद्रावण देखो विंदावण (प्राक ३६)।

विंध सक [व्यध्] वीधना, छेदना, वेधना । विंधइ, विंधेजा (पि ४८६; भग)। वक. विंधंत (सुर २, ६३)। संक. विंधिअ (नाट—मृच्छ २१३)। हेक. विंधिउं (स ६२)। क. विंधेयव्व (सुपा २६६)।

विंधण न [व्यधन] छेदन, वेधना; 'लक्ख-  
विंधण'—(धम्मंवि ५२)।

विंधिअ वि [विद्ध] जो वेधा गया हो वह, छिन्न (सम्मत् १५८)।

विंभय देखो विंम्हय = विस्मय (भवि)।

विंभर देखो विंम्हर । विंभरइ (पि ३१३)।

विंभल वि [विह्वल] व्याकुल, घबड़ाया हुआ; 'विसविंभल' (उप ५६७ टी, कुप्र ६०; ५६८; भवि; शोध ७३)।

विंभिअ वि [विस्मित] आश्चर्य-चकित-  
'ओधुणइ वीवओ विंभ (?भि)ओ व्व पवणा-  
हओ सीसं' (वज्जा ६६; भवि)।

विंभिअ देखो विअंभिअ; 'सोहग्गविभियासाए'  
(वज्जा ८६)।

विंसदि (शौ) ली [विंशति] बीस, २० (प्रयो २०)।

विकंध सक [वि + कथ्] प्रशंसा करना ।  
विकंधइज्जा (सूत्र १, १४, २१)।

विकंप अक [वि + कम्प्] हिल जाना, चलित होना । वक. विकंपमाणो (सूत्र १, १४, १४)।

विकंप सक [वि + कम्पय्] १ हिलाना, चलाना । २ त्याग करना, छोड़ना । ३ अपने मंडल से बाहर निकलना । ४ भीतर प्रवेश करना । विकंपइ (सुज्ज १, १)। संक. विकंपइत्ता (सुज्ज १, ६)।

विकंप वि [विकम्प] कम्प, हिलन (पेवा १८, १५)।

विकच वि [विकच] विकसित, प्रफुल्ल (दे ७, ८६) ।

विकट्ट सक [वि + कृन्] काटना । वक्र.  
विकट्टंत (संवा ६ः) ।

विकट्टिय वि [विकृत्त] काटा हुआ (तंडु ४४) ।

विकट्ट देखो विअट्ट (राज) ।

विकड्ड सक [वि + कृप्] लींचना ।  
विकड्ड (पएह १, १—पत्र १८) । वक्र.  
विकड्डमाण (उवा) ।

विकत्त देखो विकट्ट । विकत्तंति (सूत्र १, ५,  
२, २), विकत्ताहि (पएह १, १—पत्र १८) ।

विकत्तु वि [विकरित्] विशेषक, विनाशक;  
'अप्पा कत्ता विकत्ता य दुक्खाण य सुहाण  
य' (उत्त २०, ३७) ।

विकत्थ देखो विकंथ । विकत्थइ, विकत्थसि  
(उवः कुप्र १२५) । वक्र. विकत्थंत (सुपा  
३१६) ।

विकत्थण न [विकत्थन] १ प्रशंसा, धावा ।  
२ वि. प्रशंसा-कर्ता (पुष्क ३३०, धर्मवि  
३६) ।

विकत्थणा लो [विकत्थना] प्रशंसा, धावा  
(पिंड १२८) ।

विकप्प देखो विअप्प (कसः पंचभा) ।

विकप्पण न [विकल्पन] छेदन, काटना;  
'पन्नोउ(?पउ)लए-विकप्पणाणि य' (पएह  
१, १—पत्र १८) ।

विकप्पणा देखो विअप्पणा (णाय १,  
१६—पत्र २१८) ।

विकप्पिय देखो विगप्पिय (राज) ।

विकय देखो विगय = विकृत (पएह १, १—  
पत्र २३; १, ३—पत्र ४५) ।

विकय देखो विकच (पिग) ।

विकर सक [वि + कृ] विकारपाना । कवक.  
विकीरंत (अच्छु ४७) ।

विकरण न [विकरण] विशेषण, विनाशः  
'कम्मरयविकरणकरं' (णाय १, ८—पत्र  
१५२) ।

विकराल देखो विगराल (देः राज) ।

विकल देखो विअल = विकल; 'कला अविक्कला  
नुज्ज' (कुप्र ८; सिरि २२३; पंचा ६, ३६) ।  
देखो विगल = विकल ।

विकस देखो विअस । विकसइ (पड्) ।

विकसिय देखो विअसिय (कण) ।

विकहा देखो विगहा (सम ४६) ।

विकारिण वि [विकारिन्] विकार-युक्तः  
'वालो अविकारियो अकुटोओ' (पउम २६,  
६०) ।

विकासर देखो विआसर (हे १, ४३) ।

विकिइ देखो विगइ = विकृति (विसे २६६८) ।

विकिचण देखो विगिचण (श्रोवभा २०६  
टी) ।

विगिचणया देखो विगिचणया (श्रोवभा  
२०६ टी; ठा ८ टी—पत्र ४४१) ।

विकिट्ट वि [विकृष्ट] १ उच्छृष्ट; 'विकिट्ट-  
वसोसियंगो' (महा) । २ न. लगातार चार  
दिनों का उपवास (संनोव ५८) । देखो  
विगिट्ट ।

विकिण सक [वि + क्री] वेचना । विकिणइ  
(हे ४, ५२) ।

विकिणण न [विक्रयण] विक्रय, वेचना  
(कुमा) ।

विकिण्ण वि [विकीर्ण] १ व्याप्त, भरा हुआ  
(भग) । २—देखो विइण्ण, विकिन्न =  
विकीर्ण (दे) ।

विकिदि देखो विगइ = विकृति (प्राकृ १२) ।

विकिन्न वि [विकीर्ण] १ आच्छृष्ट (पएह १,  
१—पत्र १८) । २ देखो विइण्ण = विकीर्ण  
(पएह १, ३—पत्र ४५) ।

विकिय देखो विगिय (श्रोवभा २८६ टी) ।

विकिर अक [वि + कृ] १ विखरना । २ सक.  
फेंकना । ३ हिलाना । कवक. विइजंत,  
विकिरिजमाण (गठड ३३४; राज) ।

विकिरण देखो विकरण (तंडु ४१) ।

विकिरिया लो [विक्रिया] १ विविध क्रिया ।  
२ विशिष्ट क्रिया (राजा) । देखो विकिकरिया ।

विकीण देखो विकिण । विकीणइ, विकीणए  
( पड् ) ।

विकीरंत देखो विकर ।

विकुच्छिअ वि [विकृत्सित] खराब, दुष्ट  
(भवि) ।

विकुज्ज सक [विकृज्जय्] कुज्ज करना,  
द्वाना । संक्र. विकुज्जिय (आचा २, ३,  
२, ६) ।

विकुप्प अक [वि + कुप्] कोप करना ।  
विकुप्पए (गा ६६७) ।

विकुच्च देखो विउच्च = वि + कृ, कुर्व ।

विकुच्चंति (पि ५०८) । भूका. विकुच्चिंमु

(पि ५१६) । भवि. विकुच्चिसंति (पि  
५३३) । वक्र. विकुच्चमाण; (ठा ३, १—  
पत्र १२०) ।

विकुस पुं [विकुश] बलवज आदि तुण  
(श्रोपः णाय १, १ टी—पत्र ६) ।

विकूड सक [वि + कूटय्] प्रतिवात करना ।  
विकूडे (विसे ६३३) ।

विकूण सक [वि + कूणय्] घृणा से मुंह  
मोड़ना । विकूणोइ (विसे १०६) ।

विकोअ पुं [विकोच] विस्तार, फैलाव  
(वमंसं ३६५; भग ५, ७ टी—पत्र २३६) ।

विकोअ देखो विगोअ; 'जो पवयणं विकोअइ  
सो नेओ दोहंससारी' (वेइय ८३०) ।

विकोवण न [विकोपन] विकास, प्रसार,  
फैलाव; 'सीसमइविकोवणयाए' (पिंड ६७) ।

विकोवणया लो [विकोपना] विपाक;  
'इदिअत्यविकोवणयाए' (ठा ६—पत्र  
४४६) ।

विकोविय वि [विकोविद] कुशल, निरुण  
(पिंड ४३१) ।

विकोस वि [विकोश] कोश-रहित (तंडु  
२०) ।

विकोस } अक [विकोशय्] १ कोश-  
विकोसाय } रहित होना, विकसना । २

फैलना । विकोसइ (हे ४, ४२) । वक्र.  
विकोसायंत (पएह १, ४—पत्र ७८) ।

विकोसिअ वि [विकोशित] १ विकसित  
(कुमा) । २ कोश-रहित, नंगा (णाय १,  
८—पत्र १३३) ।

विक सक [वि + क्री] वेचना । वक्र. विकंत  
(पउम २६, ६) । कवक. विक्रायमाण (दस  
५, १, ७२) ।

विकअ पुं [विक्रय] वेचना (अभि १८४;  
गठडः सं ४६) ।

विकअ देखो विकच (पड्) ।

विकइ वि [विक्रियन्] वेचनेवाला (दे २,  
६८) ।

विक्रंत देखो विक्र ।

विक्रंत वि [ विक्रान्त ] १ पराक्रमी, शूर (राया १, १—पत्र २१; विते १०५६; प्रासु १०७; कप्प) । २ पुं. पहली नरक-भूमि का वारहवाँ नरकेन्द्रक—नरक-स्थान विशेष (देवेन्द्र ५) ।

विक्रंति लो [ विक्रान्ति ] विक्रम, पराक्रम (राया १, १६—पत्र २११) ।

विक्रंभ देखो विक्रखंभ = विष्कम्भ (देवेन्द्र ३-६) ।

विक्रणण न [ विक्रयण ] विक्रय, वेचना (सुपा ६०६, सट्टि ६ टी) ।

विक्रम अक [ वि + क्रम ] पराक्रम करना, शूरता दिखलाना । भवि. विक्रमिस्सवि (शो) (पार्थ ६) ।

विक्रम पुं [ विक्रम ] १ शौर्य, पराक्रम (कुमा) । २ सामर्थ्य (गडड) । ३ एक राजा का नाम (सुपा ५६९) । ४ राजा विक्रमादित्य (रंभा ७) । ५ जस पुं [ यशस ] एक राजा (महा) । ६ पुर न [ पुर ] एक नगर का नाम (ती २१) । ७ राय पुं [ राज ] एक राजा (महा) । ८ सेण पुं [ सेन ] एक राज-कुमार (सुपा ५६२) । ९ इच्च, इत्त पुं [ इत्त ] एक सुप्रसिद्ध राजा (गा ४६४ अ; सम्मत १४६; सुपा ५६२; गा ४६४) ।

विक्रमण पुं [ दे ] चतुर चालवाला घोड़ा (दे ७; ६७) ।

विक्रमि वि [ विक्रमिन् ] पराक्रमी, शूर (कुमा) ।

विक्रव वि [ विक्रव ] व्याकुल, वेचैन (पत्र १६६; प्राप्र; संबोध २१) ।

विक्रायमाण देखो विक्र ।

विक्रि देखो विक्रइ; 'ते नाणविक्रणो पुण मिच्छत्तपरा, न ते मुणिएणो' (संबोध १६) ।

विक्रिअ वि [ दे ] संस्कृत, सुवारा हुआ (दस ७, ४३) ।

विक्रिंत वि [ विक्रन्त ] छिन्न, काटा हुआ (परह १, ३—पत्र ५४) ।

विक्रिह्ठ देखो विक्रिट्ट (संबोध ५८) ।

विक्रिण सक [ वि + क्री ] वेचना । विक्रिणइ (प्राप्र) । कर्म. विक्रिणीअति (पि. ५४८) ।

वक्र. विक्रिणंत, विक्रिणित (पि ३६७; सुपा २७६) । संक. विक्रिणिअ (नाट—मृच्छ ६५) ।

विक्रिणिअ } वि [ विक्रीत ] वेचा हुआ (सुपा विक्रिय } ६४२; भवि) ।

विक्रिय देखो विउव्व = वैक्रिय; 'कयविक्रियल्लो सुरो न्व लक्खयसि' (सुपा १८७), 'कयविक्रिय-कामो देवुव्व' (सम्मत्त १०४) ।

विक्रि सक [ वि + कृ ] विकरना, छितरना, फैलाना । कवक. विक्रिणिज्जमाण (राय १४) ।

विक्रिरिया लो [ विक्रिया ] विकृति, विकार; 'तोए नयणइएहि विक्रिरियं कुणइ' (सुपा ५१४) । देखो विक्रिरिया ।

विक्रीय देखो विक्रिय = विक्रीत (सुर ६, १६५; सुपा ३८५) ।

विक्रे सक [ वि + क्री ] वेचना । विक्रेइ, विक्रेअइ (हे ४, ५२; प्राप्र; वात्वा १५२) । क. विक्रेज्ज (दे ६, ४०; ७, ६६) ।

विक्रेणुअ वि [ दे ] विक्रेय, वेचने योग्य (दे ७, ६६) ।

विक्रोण पुं [ विक्रोण ] विकूलन, घृणा से मुंह सिकुड़ना (दे ३, २८) ।

विक्रोस सक [ वि + क्रुश ] चिल्लाना । विक्रोश (मा) (मृच्छ २७) ।

विक्रखंभ पुं [ दे ] १ स्थान, जगह (दे ७, ८८) । २ अंतराल, बीच का भाग (दे ७, ८८; से ६, ५७) । ३ विवर, छिद्र (से ३, १४) ।

विक्रखंभ पुं [ विष्कम्भ ] १ विस्तार (परण १—पत्र ५२; ठा ४, २—पत्र २२६; दे ७, ८८; पाप्र) । २ चौड़ाई; 'जंबुदीवे दीवे एणं जोयणसहस्सं आयामविक्रखंभेण परणत्ते' (सम २) । ३ बाहुल्य, स्थूलता, मोटाई (सुज १, १—पत्र ७) । ४ प्रतिवन्व, निरोध (सम्यकत्त्वो ८) । ५ नाटक का एक अंग (कप्प) । ६ द्वार के दोनों तरफ के बीच का अन्तर (ठा ४, २—पत्र २२५) ।

विक्रखंभिअ वि [ विष्कम्भित ] निरुद्ध, रोका हुआ (सम्यकत्त्वो ८) ।

विक्रखण न [ दे ] कार्य, काम, काज (दे ७, ६४) ।

विक्रखय वि [ विक्रय ] ब्रण-युक्त, कृत-ब्रण (भग ७, ६—पत्र ३०७) ।

विक्रखर सक [ वि + कृ ] १ छितरना; तितर-वितर करना । २ फैलाना । ३ इधर उधर फेंकना । विक्रखरइ (कप्प), विक्रखरेज्जा (उवा २०० टि) । कवक. विक्रखरिज्जमाण (राज) ।

विक्रखवण न [ विक्रपण ] १ विनाश । २ वि. विनाशक; 'वज्जं अंसंखपडिवक्खविक्रखवणं' (सुपा ४७) ।

विक्रखाइ लो [ विक्रयाति ] प्रसिद्धि (भवि) । विक्रखाय वि [ विक्रयात ] प्रसिद्ध, विद्युत (पाप्र; सुर १, ४६; रंभा; महा) ।

विक्रखास वि [ दे ] विरूप, खराब, कुदिसत (दे ७, ६३) ।

विक्रिखणण वि [ दे ] १ श्रायत, लम्बा । २ अग्रतीर्ण । ३ न, जघन (दे ७, ८८) ।

विक्रिखणण देखो विक्रिणण (कस) ।

विक्रिखत्त वि [ विक्रिप्त ] १ फेंका हुआ (पाप्र; कस; गडड) । २ भ्रान्त, पागल; 'पसुतविक्रिखत्तणो परियणो' (उप ७२८ टी; दे १, १३३; महा) ।

विक्रिखर देखो विक्रखर । विक्रिखरेज्जा (उवा) ।

विक्रिखरिअ वि [ विक्रीर्ण ] खरारा हुआ, छितरा हुआ, फैला हुआ (सुर ५, २०६; सुपा २४६; गडड) ।

विक्रिखय सक [ वि + क्षिप् ] १ दूर करना । २ प्रेरना । ३ फेंकना । विक्रिखवइ (महा) ।

विक्रिखवण न [ विक्रिषण ] १ दूरीकरण । २ प्रेरणा (पत्र ६४) ।

विक्रखेव पुं [ विक्रिषे ] १ क्षोभ; 'छोहो विक्रखेवो' (पाप्र) । २ उचाट, ग्लानि, खेद (से ५, ३) । ३ ऊँचा फेंकना, ऊर्ध्व-क्षेपण (श्रीवभा १६३) । ४ फेंकना, क्षेपण (गा ५८२) । ५ शृंगार-विशेष, अवज्ञा से किया हुआ मरडन (परह २, ४—पत्र १३२) । ६ चित्त-भ्रम (स २८२) । ७ विलंब, देरी (स ७३५) । ८ सैन्य, लश्कर (स २४; ५७३) ।

विक्रखेवणी लो [ विक्रिषणी ] कथा का एक भेद (ठा ४, २—पत्र २१०) ।



विकस्वैविया स्त्री [ विकल्पिका ] व्याखेप,  
विक्षेप (वव ६)।

विकस्वोड सक [दि] निन्दा करना; गुजराती  
में 'वखोडवु'। विकस्वोडेइ (सिरि ८२५)।

विखंडिय वि [विखण्डित] खण्डित किया  
हुआ (पउम २२, ६२)।

विग देखो विअ = वृक (परह १, १—पत्र  
७; सण; णाया १, १—पत्र ६५)।

विगइ स्त्री [विकृति] १ विकार-जनक घृत  
आदि वस्तु (णाया १, ८—पत्र १२२;  
उव; सं ७२; आ २०)। २ विकार (उत्त  
३२, १०१)।

विगइ स्त्री [विगति] विनाश (विसे २१४६)।  
विगइंगाल वि [विगताङ्गार] राग-रहित  
(श्रीघ ५७६)।

विगइच्छ वि [विगतेच्छ] इच्छा-रहित,  
निःस्पृह (उप १३० टी; ६१३)।

विगंच देखो विगिच। संकृ. विगंचिडं,  
विगंचिऊण (वव २; संवोध ५७)।

विगंचण देखो विगिचण; 'काए कंहुयणं वज्जे  
तहा खलविगंचणं' (संवोध ३)।

विगंचिअ देखो विइंचिअ (स १३५ टि)।

विगच्छ अक [वि + गम्] नष्ट होना।  
वकृ. विगच्छंत (सम्म १३४)।

विगज्ज देखो विगह = वि + ग्रह।

विगड देखो विअग = विकट (परह १, ४—  
पत्र ७८; औप)।

विगड देखो विअड = विवृत (ठा ३, १ टी—  
पत्र १२२)।

विगण सक [वि + गणय्] १ निन्दा  
करना। २ धृष्टा करना। कवकृ. विगणिज्जंत  
(तंडु १४)।

विगत्त सक [वि + कृत्] काटना, छेदना।  
संकृ. विगत्तऊणं (सूत्र १, ५, २, ८)।

विगत्त वि [विकृत्त] काटा हुआ, छिन्न  
(परह १, १—पत्र १८)।

विगत्तग वि [विकर्तक] काटनेवाला (सूत्र  
२, २, ६२)।

विगत्तणा स्त्री [विकर्तना] छेदन (उव)।

विगत्यय वि [विकर्तयक] प्रशंसा करनेवाला,  
आत्मश्लाघा करनेवाला (भवि)।

विगप्प देखो विअप्प = वि + कल्प्। वकृ.  
विगप्पयंत, विगप्पमाणं (सुर ६, २२४;  
३, १२४)।

विगप्प पुं [विकल्प] १ एक पदा में प्राप्ति;  
'वसहो विगप्पेणं' (पंच ३, ४४)। २  
देखो विअप्प = विकल्प (णाया १, १६—  
पत्र २१८; सुर ३, १०२; ४, २२२; सुपा  
१२६; जी २५)।

विगप्पण देखो विअप्पण (उत्तर २३, ३२;  
महा)।

विगप्पिअ वि [विकल्पित] १ उत्प्रेक्षित,  
कल्पित (पव २; उव)। २ चिन्तित, विचारित  
(पव १४५)। ३ काटा हुआ, छिन्न; 'हृत्पया-  
यपडिच्छित्तं कत्तनासविगप्पिअं' (दस ८, ५६)।

विगम पुं [विगम] विनाश (सुर ७, २२६;  
१२, १६)।

विगय वि [विकृत] विकार-प्राप्त (णाया १,  
२—पत्र ७६; १, ८—पत्र १३३)।

विगय वि [विगत] १ नाश-प्राप्त, विनष्ट  
(सम्म १३४; विसे ३३७७; पिड ६१०)।

२ पुं. एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६)। °धूम  
वि [°धूम] द्वेष-रहित (श्रीघ ५७६)।

°सोग पुं [°शोक] एक महा-ग्रह, ज्योतिष्क  
देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८), देखो  
वीअ-सोग। °सोगा स्त्री [°शोका] विजय-

विशेष की एक नगरी (ठा २, ३—पत्र ८०)।

विगरण न [विकरण] परिष्ठापन, परित्याग  
(कस)।

विगरह सक [वि + गर्ह] निन्दा करना।  
वकृ. विगरहमाणं (सूत्र २, ६, १२)।

विगराल वि [विकराल] भीषण, भयंकर  
(सुपा १८२; ५०५; सण)।

विगल सक [वि + गल्] टपकना, चूना।  
विगलइ (पड)।

विगल पुं [विकल] १ विकलेन्द्रिय—दो,  
तीन या चार ज्ञानेन्द्रियवाला जन्तु (कम्म ३,  
११; ४, ३; १५; १६; जी ४१)। २ देखो

विअल = विकल (उव; उप पृ १८१; पंचा  
१४, ४७)। °दिस पुं [°दिश] नय-वाक्य

(अज्ज ६२)।

विगलिदिय पुं [विकलेन्द्रिय] दो, तीन या  
चार इन्द्रियवाला जन्तु (ठा २, २; ३, १—  
पत्र १२२)।

विगस अक [वि + कस्] खिलना, फूलना।  
विगसति (तंडु ५३)। वकृ. विगसंत (णाया  
१, १—पत्र १६)।

विगह सक [वि + ग्रह] १ लड़ाई करना।  
२ वर्ग-मूल निकालना। ३ समान आदि का  
समानार्थक वाक्य बनाना। संकृ. 'भूयो भूयो  
विगज्ज मूलतिगं' (पंचा २, १८)।

विगह देखो विग्गह; 'हासदवविगज्जिण विगह-  
मुक्के' (गच्छ २, ३३)।

विगहा स्त्री [विकथा] शास्त्र-विरुद्ध वार्ता,  
स्त्री आदि की अनुपयोगी बात (भग; उव; सुर  
१४, ८८; सुपा २५२; गच्छ १, ११)।

विगाड वि [विगाड] १ विशेष गाड, अतिशय  
निविड (उत्त १०, ४ टी)। २ चारों ओर से  
व्याप्त (राज)।

विगाण न [विगान] १ वचनीय, लोकापवाद  
(दे ३, ३)। २ विप्रतिपत्ति, विरोध (वमसं  
२६६; जेइय ७५६)।

विगार पुं [विकार] विकृति, प्रकृति का अन्यथा  
परिणाम (उप ६८६ टी; विसे १६८८)।

विगारि वि [विकारिन्] विकृत होनेवाला  
(पिड २८०; पउम १०१, ४८)।

विगाल देखो विआल = विकाल (सुर १,  
११७)।

विगालिय वि [विगालित] विलम्बित, प्रती-  
क्षित; 'एत्तियमेत्तं कालं विमा (?गा)लियं  
जेण आसाए' (सुर ६, २३)।

विगाह सक [वि + गाह] १ अवाहन  
करना। २ प्रवेश करना। संकृ. विगाहिआ  
(सम ५०)।

विगिच सक [वि + विच्] १ पृथक्  
करन, अलग करना। २ परित्याग करना।

३ विनाश करना। विगिचइ, विगिचए,  
विगिचंति (आचा; कस; श्रावक २६२ टी;  
सूत्र १, १, ४, १२; पिड ३६६); विगिच

(सूत्र १, १३, २१; उत्त ३, १३; पिड  
३६५)। वकृ. विगिचंत, विगिचमाण

(श्रावक २६२ टी; आचा)। संकृ. विगिचि-  
ऊणं, विगिचित्ता (पिड ३०५; आचा)।

हेळु. विगिचिडं (पिड ३६८) । क. विगिचियञ्च (पि ५७०) ।

विगिचण न [विवेचन] परित्याग, परित्याग (पिड ४८३; क्त) ।

विगिचणया } स्त्री [विवेचना] १ निर्जरा,  
विगिचणा } विनाश (ठा ८—पत्र  
विगिचणिआ } ४४१) । २ परित्याग (श्रौषभा  
२०६; स ५१; श्रौष ६०६; ८७) ।

विगिच्छा स्त्री [विचिक्रता] सदेह, संशय, बहम (धा ३; पडि) ।

विगिद्ध देखो विक्रिद्धः 'अत्रे तवं विगिद्धं काडं बोत्रावसेससंसारा' (पत्रम २, ८३; ४, २७; गच्छ २, २५; उत ३६, २५३) । °खमग पुं [°अपक] तपस्वी साधु (राज) । °भक्तिय वि [°भक्तिक] लगातार चार या उत्तरे अधिक दिनों का उपवास करनेवाला (कण) ।

विगिय देखो विग २ = विकृत (श्रौषभा २८६) ।

विगिला } अक [वि + ग्लै] विशेष ग्लान  
विगिलाअ } होना, खिन होना । विगिलाइ,  
विगिलाएजा (पि १३६; आचा २, २, ३,  
२८) ।

विगुण वि [विगुण] १ गुण-रहित (निरि १२३३; प्रासू ७१) । २ अननुगुण, प्रतिकूल (पंचा ६, ३२) ।

विगुत्त वि [विगुत्त] १ तिरस्कृत, अवधोरित (धा १२) । २ जो खुला पड़ गया हो वह, जिसकी पोल खुल गई हो वह, जिसकी फजी-हत हुई हो वह; 'सदुक्कयविगुत्तो' (धा १४; वमंवि ७७) ।

विगुप्प° देखो विगोव ।

विगुव्वणा देखो विउव्वणा (ठा १—पत्र १६) ।

विगुव्विय देखो विउव्वियअ (पत्रम ३६, ३२) ।

विगोइय वि [विगोपित] जिसका दोष प्रकट किया गया हो वह (सण) ।

विगोव सक [वि + गोपय] १ प्रकाशित करना । २ तिरस्कार करना । ३ फजीहत करना । भवि. 'न खु न खु अउवेयपुत्तगो भोडु सुइविस्सं पवजिय अप्पाणं विगोविस्सं' (मोह १०) । कर्म. विगुप्पसु (वमंवि १३४),

विगुप्पहि (अप) (भवि) । संक. विगोवित्ता, विगोवइत्ता (कण; राया ११, १६—पत्र २४४) ।

विगोवण न [विकोपन] विकास; 'तह्वि य देसिज्जंतो सोसमइविगोवणमडुडु' (धावक २२८) ।

विगहं पुं [विग्रह] १ बरता, बांक (ठा २, ४—पत्र ८६) । २ शरीर, देह (पात्र; स ७२६; सुपा १६) । ३ युद्ध, लड़ाई (स ६३४) । ४ समास आदि के समान अर्थवाला वाक्य (विसे १००२) । ५ विभाग (ठा १०) । ६ आकृति, आकार 'वरवइरविग्रहए' (भग २, ८) । °गइ स्त्री [°गति] बांकवाली गति, वक्र गति (ठा २, १—पत्र ५५; भग) ।

विगहिय वि [वेग्रहिक] शरीर के अनुकूल; 'विग्रहिय उन्नयकुच्छी' (पएह १, ४—पत्र ७८) ।

विगहोअ वि [विग्रहिक] युद्ध-प्रिय; 'जे विग्रहोए अनायमाती' (सुत्र १, १३, ६) ।

विगहा (अप) स्त्री [विगाथा] छन्द-विशेष (पिग) ।

विगुत्त वि [दे] व्याकुल किया हुआ (भवि) ।

विगुत्त देखो विगुत्त (वमंवि ५८; ६८) ।

विगोव देखो विगोव । संक. विगोवित्ता (कण; श्रौष) ।

विगोव पुं [दे] आकुलता, व्याकुलता (दे ७, ६४; भवि; वजा २३) ।

विगोवणया स्त्री [विगोपना] १ तिरस्कार । २ फजीहत (उव) ।

विग्व पुं [विस्त] १ अन्तराय, व्याघात, प्रतिबन्ध (सुपा ३६५; कुमा; प्रासू ५४; १३५; कण; कम्म १, ६१; पड) । २ कर्म-विशेष, आत्मा के वीर्य, दान आदि शक्तियों का घातक कर्म (कम्म १, ५२; ५३) । °कर वि [°कर] प्रतिबन्ध-कर्ता (कम्म १, ६१) । °ह वि [°व] विघ्न-नाशक (श्रु ७५) । °वह वि [°वह] विघ्नवाला (सुर १, ४३) । विग्वर वि [विग्रह] गृह-रहित; 'तह उणवर-विग्वरनिरंगणोवि न य इच्छियं लहइ' (राया १, १० टी—पत्र १७१) ।

विग्वयः वि [विघ्नित] विघ्न-युक्त (हम्मोर १४) ।

विग्वुट्ट वि [विघुट्ट] चिल्लाया हुआ (विपा १, २—पत्र २६) । देखो विघुट्ट ।

विघट्ट सक [वि + घट्टय] १ विघुक्त करना । २ विनाश करना । विघट्टेइ (उव) ।

विघट्टण न [विघट्टण] विनाश (नाट) । विघडग देखो विहडण (राज) ।

विघत्थ वि [विघस्त, विप्रस्त] १ विशेष रूप से भक्षित । २ व्याप्त; 'वाहिविघत्थस्स मत्तस्स' (महा; प्राप्र) ।

विघर देखो विग्वर (उव) ।

विघाय पुं [विघात] विनाश (कुमा) ।

विघायग वि [विघातक] विनाश-कर्ता (वमंवि ५२६) ।

विघुट्ट न [विघुट्ट] विरूप आवाज करना (पएह १, ३—पत्र ४५) । देखो विग्वुट्ट ।

विघुम्म अक [वि + घूर्णय] डोलना ।

वक्र. विघुम्ममाण (सुर ३, १०६) ।

विचक्खु वि [विचक्षुष्क] चक्षु-रहित, अन्वा (उप ७२८ टी) ।

विचच्चिया स्त्री [विचर्चिका] रोग-विशेष, पामा (राज) ।

विचलिर वि [विचलित] चलायमान होने-वाला (सण) ।

विचलिय वि [विचलित] चंचल बना हुआ (भवि) ।

विचार देखो विआर = वि + चारय् । विचारंति (मृच्छ १०४) ।

विचारग वि [विचारक] विचार-कर्ता (रंभा) ।

विचारण देखो विआरण = विचारण (कुप्र ३६७) ।

विचारणा देखो विआरणा = विचारणा (वमंवि ३०६) ।

विचाल न [विचाल] अन्तराल (दे ७, ८८) ।

विचिअ वि [विचित] चुना हुआ (दे ७, ६१) ।

विचित सक [वि + चिन्तय] विचार करना । विचितेइ (महा) । वक्र. विचितित (सुर १२, १६६) । क. विचितियञ्च, विचितिज्ज (पंचा ६, ४६; द्रव्य ५०) ।

विचिंतण न [विचिन्तन] विचार, विमर्श (श्रु ६)।

विचिन्तिअ वि [विचिन्तित] विचारित (सुर ८, ३)।

विचिन्तिर वि [विचिन्तयित्] विचार-कर्ता (धा १२; सण)।

विचिच्छी ली [दे] वाद्य-विशेष (राय ४६)।  
विचिगिच्छा ली [विचिकित्सा] संशय, वमं-कार्य के फल की तरफ संदेह (सम्मत् ६५)।

विचिद्धिअ वि [विचेष्टित] १ जिसकी कोशिश की गई हो वह (सुपा ४७०)। २ न. चेष्टा, प्रयत्न (उप ३२० टी)।

विचिण्ण } सक [वि + चि] १. खोज  
विचिण्ण } करना। २ फूल आदि चुनना।  
विचिण्णंति (पि ५०२)। वक्र. विचिण्णंत (मा ४६)।

विचित्त वि [विचित्र] १ विविध, अनेक तरह का; 'विचित्तवो कम्महेहि' (महा; राय; प्रासू ४२)। २ अद्भुत, आश्चर्यकारक; 'विहिणो विचित्तयं जाणुज्जणं' (सुर १३, ४)। ३ अनेक रंगवाला, शबल (राया १, ६; कप्प)। ४ अनेक चित्रों से युक्त (कप्प; सुज्ज २०)। ५ पुं. पर्वत-विशेष (परह १, ५—पत्र ६४)। ६ वेणुदेव और वेणुदारि नामक इन्द्रों का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७)। कूड पुं [कूट] शीतोदा नदी के किनारे पर स्थित पर्वत-विशेष (इक)। पक्षल पुं [पक्ष] १ वेणुदेव और वेणुदारि नामक इन्द्रों का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७; इक)। २ चतुरिन्द्रिय जंतु की एक जाति (परण १—पत्र ४६)।

विचित्ता ली [विचित्रा] ऊर्ध्वं लोक में रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ७—पत्र ४३७)। २ अवलोक में रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (राज)।

विचिन्तिअ वि [विचित्रित] विचित्रता से युक्त (सण)।

विचुगिद (शौ) देखो विचिअ (नाट—मालती १४१)।

विचुन्नण न [विचूर्णन] चूर-चूर करना, टुकड़ा-टुकड़ा करना (द ३०)।

विचेयण वि [विचेतन] चैतन्य-रहित, निर्जीव (उप पृ ४६)।

विचेल वि [विचेल] वक्र-वर्जित, नंगा (पिड ४७८)।

विच सक [वि + अय्] व्यय करना। विच्चेइ (ती ८)। देखो विच्च।

विच पुंन [दे] व्यूत, बुनने की क्रिया (राय ६२)।

विच न [दे. वर्त्मन्] १ वीच, मध्य; 'विच्चम्मि य सज्जाओ कायव्वो परमपयहेळ' (पुप्फ ४२७); 'ठिओ अहं कूडकवाडविच्चे' (निसा १६)। २ मायं, रास्ता (हे ४, ४२१; कुमा; भवि)।

विच सक [दे] समीप में आना। विच्चइ (भवि)।

विचयण न [विचयन] अंश, विनाश (विसे २६१)।

विचामेलिय वि [व्यत्यास्रोडित] १ भिन्न भिन्न अंशों से मिश्रित। २ अस्थान में ही छिन्न हो कर फिर प्रयित, तोड़ कर सांवा हुआ (विसे ८५५)।

विचाय पुं [वित्याग] परित्याग; 'पुयम्मि वीयरायं भावो विष्फुरइ विसवविच्चाया' (संबोध ८)।

विचि ली [वांचि] तरंग, कल्लोल (पउम १०६, ४१)।

विचु } देखो विचुअ (उप ५६३; पि  
विचुअ } ५०; परण १—पत्र ४६)।

विचुइ ली [विच्युति] अंश, विनाश (विसे १८०)।

विचोअय न [दे] उपवान, ओसीसा (दे ७, ६८)।

विच्छं देखो विअ = विद।

विच्छडु सक [वि + छर्दय्] परित्याग करना। वक्र. विच्छडुमाण (राया १, १८—पत्र २३६)। संक. विच्छडुइत्ता (कप्प)।

विच्छडु पुं [विच्छर्द] १ अद्धि, वैभव, संपत्ति (पाय; दे ७, ३२ टी; हे २, ३६; पड्)। २ विस्तार (कुमा; सुपा १६२)।

विच्छडु पुं [दे] १ निवह, समूह (दे ७, ३२; गउड; से २, २; ६, ७२; गा ३८७)।

२ ठाटवाट, सजघज, घूमघाम; 'महया विच्छडुणं सोहणलगम्मि गुरुपमोएणं। कमलावई उ रत्ता परिणोया' (सुर १, १६६; कुप्र ४१; सम्मत १६३; धर्मवि ८२)।

विच्छडु ली [विच्छर्दि] १ विटोप वनन। २ परित्याग (प्राप्र)। ३ विस्तार; 'निम्मलो केवलालोअलच्छिविच्छि- ( ? च्छ ) ङ्किारओ' (सिदि १०६१)।

विच्छडुअ वि [विच्छर्दित] १ परित्यक्त; 'पामुक्कं विच्छडुअं अवहलियं उज्जिअं चत्त' (पाय; राया १, १; ठा ८; श्रौप)। २ विलिप्त, फेंका हुआ (से १०, ४६)। ४ विच्छादित, आच्छादित (हम्मोर १७)।

विच्छडुमाण देखो विच्छडु = वि + छर्दय्।  
विच्छर्दिअ देखो विच्छडुअ (नाट—मालती १२६)।

विच्छय वि [विक्षत] विविध तरह से पीड़ित (सुअ १, २, ३, ५)। देखो विकखय।

विच्छल देखो विवमल (पड् ४०)।

विच्छवि वि [विच्छवि] १ विरूप आकृति-वाला, कुडौल (परह १, ३—पत्र ५४)। २ पुं. एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २८)।

विच्छाइय वि [विच्छायित] निस्तेज किया हुआ (सुपा १६६)।

विच्छाय वि [विच्छाय] निस्तेज, कान्ति-रहित, फीका (सुर ४, १०६; कप्प; प्रासू १३७; महा; गउड)।

विच्छाय सक [विच्छायय] निस्तेज करना; 'विच्छाएइ मियंक्कं तुसारवरिसो अणुणुणोवि' (गउड)। वक्र. विच्छाअंत (कप्प)।

विच्छिअ वि [दे] १ पाटित, विदारित। २ विचित, चुना हुआ। ३ विरल (दे ७, ६१)।

विच्छिअ देखो विच्छिअ (उत्त ३६, १४८; पि ५०; ११८; ३०१)।

विच्छिद सक [वि + छिद्] तोड़ना, अलग करना। विच्छिदइ (पि ५०६)। भवि. विच्छिदिहिति (पि ५३२)। वक्र. विच्छिद-माण (भग ८, ३—पत्र ३६५)।

विच्छिण्ण वि [विच्छिन्न] अलग किया हुआ (विपा १, २ टि—पत्र २८; नाट—सूच्छ ८६)।

विच्छिन्ति स्त्री [विच्छिन्ति] १ विन्यास, रचना (पात्रः स ६१५; सुपा ५४; ८३; २६०; गउड)। २ प्रान्त भाग (सुर ३, ७०)। ३ अंगाराग (गा ७८०)।

विच्छिन्न देखो विच्छिन्ना (विपा १, २ टी—पत्र २८)।

विच्छिन्न सक [वि + स्पृश्] विशेष रूप से स्पर्श करना। कवक. विच्छिन्नपमाण (कम्प; श्रौप)।

विच्छिन्न सक [वि + क्षिप्] फेंकना। संक. विच्छिन्न (नाट—वैत ३८)।

विच्छु } देखो विंचुअ (गा २३७; जो  
विच्छुअ } १८; उत ३६, १४८; प्रासू १६; णाया १, ८—पत्र १३३)।

विच्छुडिअ वि [विच्छुटि] १ विच्छुड़ा हुआ, जो अलग हुआ हो, विरहित; 'जहवि हु कालवसेणं सती समुदाप्रो कहवि विच्छु (१च्छु)डिप्रो' (कज्जा १५६)। २ मुक्त (राज)।

विच्छुरिअ वि [दे] अपूर्व, अदभुत (पड)।

विच्छुरिअ वि [विच्छुरित] १ खचित, जड़ा हुआ; 'खचिअं विच्छुरिअयं जडिअं' (पात्र)। २ संबद्ध, जोड़ा हुआ (से १४, ७६)। ३ व्याप्त (पउम २, १०१; सुपा ६; २१२; सुर २, २२१)।

विच्छुह सक [वि + क्षिप्] फेंकना, दूर करना। विच्छुह (से १०, ७३; गा ४२४ अ)। क. विच्छुहव्य (से १०, ५३)।

विच्छुह अक [वि + क्षुम्] विक्षोभ करना, चंचल हो उठना। विच्छुहिरे (हे ३, १४२)।

विच्छुह वि [विक्षिप्त] १ फेंका हुआ, दूर किया हुआ (से ६, १६)। २ प्रेरित (पात्र)।

विच्छुह वि [दे] विद्युक्त, विरहित, विघटित; 'विच्छुडा सुहाप्रो' (स ६७८)।

विच्छुहव्य देखो विच्छुह = वि + क्षिप्।

विच्छेअ पुं [दे] १ विलास। २ जघन (दे ७, ६०)।

विच्छेअ पुं [विच्छेद] १ विभाग, पृथक्करण (विसे १००६)। २ वियोग (गा ६१३)। ३ अनुबन्ध-विनाश, प्रवाह-निरोध (कम्प)।

विच्छेअण न [विच्छेदन] ऊपर देखो (राज)।

विच्छेअय वि [विच्छेदक] विच्छेद-कर्ता (भवि)।

विच्छेइ वि [विच्छेदिन्] ऊपर देखो (कुप्र २२)।

विच्छेइअ वि [विच्छेदित] विच्छिन्न किया हुआ (नाट—विरू ८२)।

विच्छेइय वि [दे] विरहित (भवि)।

विच्छेड देखो विच्छोल। संक. विच्छेडिअ वि (अप) (हे ४, ४३६)।

विच्छेड पुं [दे. विदभं] नगर-विशेष; 'विदभं विच्छेडो' (प्राक ३८)।

विच्छेड पुं [दे] विरह, वियोग (भवि)। देखो विच्छेह।

विच्छेड सक [कम्पय] कंपाना। विच्छेड-लड (हे ४, ४६)। वक. विच्छेडलं, विच्छेडलित (कम्प; सुर १०, १०७; १५, १३)।

विच्छेडिअ वि [कम्पित] कंपाया हुआ (कुमा; गउड)।

विच्छेडिअ वि [विच्छेडलित] धौत, धोया हुआ; 'धौअं विच्छेडिअ' (पात्र)।

विच्छेडिअ सक [दे] विद्युक्त करना, विरहित करना;

'कालेण रुढपेम्मे परोप्पं

हिययनिच्चडियभावे।

अकलुणहियप्रो एसो

विच्छेडिअ सत्तसंवाए'

(स १८६)।

विच्छेह पुं [दे] विरह, वियोग (दे ७, ६२; हे ४, २६६)।

विच्छेह पुं [विक्षोभ] १ विक्षेप; 'जे संमुहागअत्रोलंतवलियपिअपेसिअच्छिनिच्छेहो' (गा २१०), 'पुलइयकवोलमूला विमुक्ककडवव-विच्छेहो' (सम्मत्त १६१)। २ चंचलता (उप पृ १५८)।

विच्छेह सक [वि + छल्य] छलित करना, ठगना। कर्म. विच्छेहजइ (महा)।

विच्छेह देखो विच्छेव। विच्छेहइ (स १८६ टि)।

विजइ वि [विजयिन्] विजेता, जीतनेवाला (कम्प; नाट—विरू ५)।

विजंभ देखो विअंभ = वि + जृम्भ्। वक. विजंभंत (काप्र १८६)।

विजड वि [वित्यक्त] परित्यक्त (उत्त ३६, ८३; सुख ३६, ८३; श्रौघ २४६)।

विजण देखो विअण = विजत। 'लक्खण! देसो इमो विजणो' (पउम ३३, १३; हे १, १७७; कुमा)।

विजय सक [वि + जि] १ जीतना, फतह करना। २ अक. उत्कर्ष से वर्तना, उत्कर्ष-युक्त होना। विजयइ (पव २७६—गाया १५६६); 'विजयंतु ते पएसा विहरेइ जय वीरजिणनाहो' (धर्मवि २२)। क. विजेतव्य (पे) (कुमा)।

विजय पुं [विजय] १ निर्णय; शास्त्र के अर्थ का ज्ञान-पूर्वक निश्चय (ठा ४, १—पत्र १८८; मुज १०, २२)। २ अनुचिन्तन, विमर्श (श्रौप)।

विजय पुं [विजय] आश्रय, स्थान (दस ६, ५६)।

विजय पुं [विजय] १ जय, जीत; फतह (कुमा; कम्म १, ५५; अभि ८१)। २ एक देव-विमान (अनु; सम ५७; ५८)। ३ विजय-विमान-निवासी देवता (सम ५६)।

४ एक मुहूर्त, आहोरात्र का बारहवां या सतरहवां मुहूर्त (सम ५१; सुज्ज १०, १३; कम्प; णाया १, ८—पत्र १३३)। ५ भगवान् नमिनायजी का पिता (सम १५१)।

६ भारतवर्ष के वीसवें भावी जिनदेव (सम १५४; पव ४६)। ७ तृतीय चक्रवर्ती के पिता का नाम (सम १५२)। ८ आश्विन मास (सुज्ज १०, १६)। भारतवर्ष में उत्पन्न द्वितीय बलदेव (सम ८४; १५८ टी; अनु; पव २०६)। १० भारतवर्ष का भावी दूसरा बलदेव (सम १५४)। ११ ग्यारहवें चक्रवर्ती राजा का पिता (सम १५२)। १२ एक राजा (उप ७६८ टी)। १३ एक क्षत्रिय का नाम (विपा १, १—पत्र ४)। १४ भगवान् चन्द्र-प्रभ का शासन-देव (संति ७)। १५ जंबू-द्वीप का पूर्व द्वार। १६ उस द्वार का अधिष्ठाता देव (ठा ४, २—पत्र २२५)। १७ लवण समुद्र का पूर्व द्वार। १८ उस द्वार का अधिपति देव (ठा ४, २—पत्र

२२६; इक)। १९ क्षेत्र-विशेष, महाविश्वे  
वर्ष का प्रान्त-तुल्य प्रदेश (ठा ८—पत्र ४३५;  
इक; जं १)। २० उत्कर्ष; 'जएणं विजएणं  
वढाविइ (खाया १, १—पत्र ३०; औप;  
राय)। २१ परामव करके ग्रहण करना  
(कुमा)। २२ विरुन की प्रथम शताब्दी के  
एक जैन आचार्य (पउम ११८, ११७)।  
२३ अम्बुदय (राय)। २४ समृद्धि (राज)।  
२५ घात की खण्ड का पूर्व द्वार (इक)।  
२६ कालोद समुद्र, पुष्कर-चरद्वीप तथा  
पुष्करोद समुद्र का पूर्व द्वार (राज)।  
२७ स्वक पर्वत का एक कूट (ठा ८—पत्र  
४३६; इक)। २८ एक राजकुमार (वम्म  
११)। २९ छन्द-विशेष (पिग)। ३० वि.  
जीतनेवाला; 'वरपुर एविहाहिबविजयवेगये'  
(सम्मत् २१६)। 'चरपुर न [चरपुर]  
एक विद्याधर-नगर (इक)। 'जत्ता औ  
[यात्रा] विजय के लिए किया जाता प्रयाण  
(धर्मवि ५६)। 'ढका औ [ढका] विजय-  
सूचक भेरी (सुपा २६८)। 'द्वय पुं [द्वय]  
अठारहवीं शताब्दी का एक जैन आचार्य  
(द्रुक् १)। 'पुर न [पुर] नगर-विशेष  
(इक २२३; २२४; ३२६)। 'पुरा, पुरी  
औ [पुरी] पद्मकावती नामक विजय-  
क्षेत्र की राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०;  
इक)। 'माण पुं [मान] एक जैन आचार्य  
(द्र ७०)। 'वंत वि [वंत] विजयी,  
विजेता (ति १४)। 'वत्त न [वत्त] चैत्य-  
विशेष (फलादिपनक)। 'वट्टमाण पुं  
[वर्धमान] ग्राम-विशेष (विपा १, १)।  
'वेजयन्ती औ [वेजयन्ती] विजय-सूचक  
पताका (मौग)। 'सागर पुं [सागर] एक  
सूर्यवंशी राजा (पउम ५, ६२)। 'सिह,  
'सीह पुं [सिह] १ मुप्रसिद्ध प्राचीन जैना-  
चार्य (सुपा ६५८)। २ एक विद्याधर राज-  
कुमार (पउम ६, १५७)। 'सूरि पुं [सूरि]  
चन्द्रपुर के समय का एक जैन आचार्य (धर्मवि  
४४)। 'सेन पुं [सेन] एक प्रसिद्ध जैन  
आचार्य जो आचार्य गुरि के शिष्य थे (पत्र  
२७६—गाथा १५२६)।

विजयता } औ [विजयन्ती] १ पक्ष को  
विजयन्ती } मंडली राव (सुज १०, १५)।  
२ एक पक्षी का नाम (उप ७२८ टी)।

विजया औ [विजया] भगवान् शान्तिनाय  
की दीक्षा-शिविका (विचार १२६)।

विजया औ [विजया] १ भगवान् अजित-  
नायकी की माता का नाम (सम १५१)।  
२ पांचवें बलदेव की माता (सम १५२)।  
३ अंगारक आदि ग्रहों की एक पटरानी (ठा  
४, १—पत्र २०४)। ४ विद्या-विशेष (पउम  
७, १४१)। ५ पूर्व-स्वक पर रहनेवाली एक  
दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६)। ६  
पांचवें चक्रवर्ती राजा की पटरानी—औ-रत्न  
(सम १५२)। ७ विजय नामक देव की  
राजधानी (सम २१)। ८ वप्रा नामक विजय  
की राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०; इक)।  
९ पक्ष की सातवीं रात (सुज १०, १४)।  
१० एक छेदनी (सुपा ६२६)। ११ भगवान्  
विमलनायको की शासन-देवी (पत्र २७; संति  
१०)। १२ भगवान् सुमतिनायकी की दीक्षा-  
शिविका (सम १५१)। १३ एक पुष्करिणी  
(इक)।

विजल वि [विजल] १ जल-रहित (गउड)।  
२ न. जल-रहित पंक (इस ५, १, ४)।  
देखो विजल।

विजह सक [वि + हा] परित्याग करना।  
विजहइ (पि ५७७)। संक. विजहित्तु (उत्त  
८, २)।

विजहणा औ [विहान] परित्याग (ठा ३,  
३—पत्र १३६)।

विजाइय वि [विजातीय] भिन्न जाति का,  
दूसरी तरह का (उप १२८ टी)।

विजाण देखो विआण = वि + जा। संक.  
विजाणित्ता, विजाणिय (कप्प)।

विजाणग } वि [विजायक] जाननेवाला,  
विजाणय } विज (आचा; नूयमि १५५)।

विजाणुअ वि [विज्ज; विजायक] जर देखो  
(प्राक १८)।

विजाणीअ (शौ) देखो विजाइय (नाट—चैत  
८)।

विजाय न [दि] लक्ष्य, निशाना; 'लखं  
विजायं (पाय)।

विजिअ वि [विजित] पराभूत, हारा हुआ  
(सुर ६, २५; स ७००)।

विजुत्त वि [विपुत्त] विरहित (धर्मसं  
१७४)।

विजुरि (अप) औ [विद्युत्] विजली  
(पिग)।

विजेइ वि [विज्येष्ठ] मध्यम; 'जेइ विजेइ'  
कण्डिा य' (चिइय १५३)।

विजेतव्व देखो विजय = वि + जि।

विजोअ सक [वि + योजय्] वियोग  
करना, अलग करना। संक. विजोअिय  
(पंच ५, १२६)।

विजोअण न [विजोअण] वियोग, विरह  
(मोह ६८)।

विजोअिअ वि [विजोअित] जुदा किया  
हुआ (कुप्र २८८)।

विजोआयइत्तु वि [विजोअयित्तु] वियोजक,  
अलग करनेवाला (ठा ४, ३—पत्र २३८;  
२३९)।

विजोहा औ [विजोहा] छन्द-विशेष (पिग)।

विज्ज अक [विद्] होना। विज्जइ; विज्जए  
(पड; कस; भग; महा), विज्जई (सुप्र १,  
११, ६)। वक. विज्जंत; विज्जमाण (सुर  
२, १७६; पंचा ६, ४७)।

विज्ज सक [वीजय्] पंखा चलाना, हवा  
करना। कर्म. विज्जज्जइ (भवि)। कवक.  
विज्जिज्जंत (पउम ६१, ३७; वज्जा ३६)।

विज्ज पुं [वेज] चिकित्सक, हकीम (सुर  
१२, २४; नाट—विक्क ६५)।

विज्ज पुं, व. [दे] देश-विशेष (पउम ६८,  
६५)।

विज्ज पुं [विट्ठस्, विज्ज] परिणत, जानकार  
(हे २, १५; कुमा; प्राक १८; सुप्र १, ६,  
५)।

विज्ज देखो वीरिअ (पउम ३७, ७०)।

विज्जं देखो विजा। 'ज्जर (अप) देखो  
विजा-हर (पि ११६)। 'थि वि [थिन्]  
छान, ग्रन्थासी (सम्मत् १४३)।

विज्जं देखो विज्जु (कुप्र ३६६)।

'विज्जंतअ देखो विज्जंत (से २, २४; पि  
६०३)।

विज्जय न [वेजक] चिकित्सा (उर ८, १०;  
भवि)।

विज्जल पुं [विज्जल] १ नरकावास-विशेष, एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २८) । २ वि. जल-रहित (निचू १) ।

विज्जल } न [दे. विज्जल] कर्दम, पंक,  
विज्जुल } काँदा, कादा (आचा २, १, ५,  
३; २. १०, २) ।

विज्जलिया स्त्री [विद्युत्] विजली (कुप्र २८५) ।

विज्जा स्त्री [विद्या] १ शास्त्र-ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सम्यग् ज्ञान (उत्त २३, २; एण्दि; धर्मवि ३६; कुमा; प्राप् ४३) । २ मन्त्र, देवी-अभिष्टित अक्षर-पद्धति । ३ साधनावाला मन्त्र (पिड ४६४; औप; ठा ३, ४ टी—पत्र १५६) । ४ अणुप्पवायन [अनुप्रवाद] जैन श्रंग ग्रन्थांश विशेष, दसवाँ पूर्व (सम २६) । ५ चारण पुं [चारण] शक्ति-विशेष-संपन्न मुनि (भग २०, ६—पत्र ७६३) । ६ चारणलद्धि स्त्री [चारणलद्धि] शक्ति-विशेष (भग २०, ६) । ७ पुण्पवाय देखो 'अणुप्पवाय (राज) । ८ पुण्वाय न [नुवाद] दसवाँ पूर्व (सिरि २०७) । ९ पिंड पुं [पिण्ड] विद्या के बल से अर्जित भिज्ञा (निचू १३) । १० मंत वि [वन्] विद्या-संपन्न (उप ४२५) । ११ लय पुंन [लय] पाठशाला (प्राप्) । १२ सिद्ध वि [सिद्ध] १ सर्व विद्याओं का अधिपति, सभी विद्याओं से संपन्न । २ जिसको कम से कम एक महाविद्या सिद्ध हो चुकी हो वह; 'विज्जाण चक्कवट्टी विज्जासिद्धो स; जस्स वेगावि सिज्जेज्ज महाविज्जा' (आवम) । १३ हर पुं [धर] १ क्षत्रियों का एक वंश (पउम ५, २) । २ पुंस्त्री. उस वंश में उत्पन्न (महा) । स्त्री. १ (महा; उन्न) । ३ वि. विद्या-धारी, शक्ति विशेष-सम्पन्न (औप; राय; जं ४) । ४ हरगोवाल पुं [धरगोपाल] एक प्राचीन जैन मुनि, जो सुस्थित और सुप्रसिद्ध आचार्य के शिष्य थे (कप्प) । ५ हरी स्त्री [धरी] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) । ६ हार (अप) न [धर] छन्द-विशेष (पिग) ।

विज्जावच्च (अप) देखो. वेयावच्च (भवि) ।

विज्जाहर वि [वैद्याधर] विद्याधर-संबन्धी; स्त्री. 'एसा विज्जाहरी माया' (महा) ।

विज्जिडिय देखो विज्जिडिय (राज) ।

विज्जु पुं [विद्युत्] १ विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, १८) । २ देवों की एक जाति; भवनपति देवों का एक भेद (पएह १, ४—पत्र ६८) । ३ आमलकप्पा नगरी का निवासी एक गृहस्थ (राया २—पत्र २५१) । ४ एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६) । ५ स्त्री. ईशानिन्द्र के सोम आदि लोकपालों की एक-एक अग्रमहिषी—पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४) । ६ चमर नामक इन्द्र की एक पटरानी (ठा ५, १—पत्र ३०२; राया २—पत्र २५१) । ७ पुंस्त्री. विजली; विज्जुणा, विज्जूए (हे १, ३३; कुमा; गा १३५) । ८ सन्ध्या, शाम (हे १, ३३) । ९ वि. विशेष रूप से चमकनेवाला; 'विज्जुसोयामणिम्भा' (उत्त २२, ७) । १० कार देखो 'वार (जीव ३—पत्र ३४२) । ११ कुमार पुं [कुमार] एक देव-जाति (भग; इक) । १२ कुमारी स्त्री [कुमारी] विदित्वक पर रहनेवाली दिक्कुमारी देवी; 'चत्तारि विज्जुकुमारिमहत्तरियाओ पएण्णत्ताओ' (ठा ४, १—पत्र १६८) । १३ जिम्भ (?), जिम्भ पुं [जिह्व] अनुवेलंवर नागराज का एक आवास-पर्वत (इक; राज) । १४ तेअ पुं [तेजस्] विद्याधरवंश का एक राजा (पउम ५, १८) । १५ दंत पुं [दन्त] १ एक अन्तर्द्वीप । २ उसमें रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४, २—पत्र २२६) । ३ दत्त पुं [दत्त] विद्याधरवंश का एक राजा (पउम ५, १८) । ४ दाढ पुं [दंष्ट्र] विद्याधर-वंश में उत्पन्न एक राजा का नाम (पउम ५, १८) । ५ पद्, प्पभ, प्पह पुं [प्रभ] १ एक वक्षस्कार पर्वत का नाग (सम १०२ टी; ठा २, ३—पत्र ६६; ५, २—पत्र ३२६; जं ४; सम १०२; इक) । २ कूट-विशेष, विद्युत्प्रभ वक्षस्कार का एक शिखर (जं ४; इक) । ३ देव-विशेष, विद्युत्प्रभ नामक वक्षस्कार पर्वत का अधिष्ठाता देव (जं ४) । ४ अनुवेलंवर नागराज का एक आवास-पर्वत (ठा ४, २—पत्र २२६; इक) । ५ उस पर्वत का निवासी देव (ठा ४, २—पत्र २२६) । ६ देवकुह वर्ष में स्थित एक महाद्रह (ठा ५, २—पत्र

३२६) । ७ न. एक विद्याधर-नगर (इक; ३२६) । ८ मई स्त्री [मती] एक स्त्री का नाम (पएह १, ४—पत्र ८५) । ९ मालि पुं [मालिन्] १ पंचशैल द्वीप का अधिपति एक यक्ष (महा) । २ रावण का एक सुभट (से १३, ८४) । ३ ब्रह्मदेवलोक का इंद्र (राज) । ४ मुह पुं [मुख] १ विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, १८) । ३ एक अन्तर्द्वीप । ४ उसका निवासी मनुष्य (ठा ४, २—पत्र २२६; इक) । ५ मेह पुं [मेघ] १ विद्युत्प्रधान मेघ, जल-रहित मेघ । २ विजली. गिरानेवाला मेघ (भग ७, ६—पत्र ३०५) । ३ वार पुं [कार] विजली करना, विद्युत्-रचना (भग २, ६) । ४ लआ, लय स्त्री [लता] विद्युत्, विजली (नाट—वेणी ६६; काल) । ५ लहाइद न [लेखायित] विजली की तरह आचरण (कप्प) । ६ विलसिअ न [विलसित] १ छन्द-विशेष (अजि २१) । २ विजली का विलास (से ४, ४०) । ३ सिहा स्त्री [शिखा] एक रानी का नाम (महा) ।

विज्जुआ स्त्री [विद्युत्] १ विजली (नाट—वेणी ६६) । २ वलि नामक इन्द्र के सोम आदि चारों लोकपालों की एक-एक पटरानी; 'मित्तगा सुभहा विज्जुत्ता (? या) असणी' (ठा ४, १—पत्र २०४; इक) । ३ वरणेन्द्र की एक अग्र-महिषी (राया २—पत्र २५१; इक) ।

विज्जुआइत्तु वि [विद्युत्कर्तृ] विजली करने-वाला (ठा ४, ४—पत्र २६६) ।

विज्जुला देखो विज्जु = विद्युत् (हे २  
विज्जुलिआ १७३; पड १६१; कुमा; प्राक्  
विज्जुली ३६; प्राप्; पि २४४) ।

विज्जू देखो विज्जु । माला स्त्री [माला] छन्द-विशेष (पिग) ।

विज्जे अ [दे] १ मार्ग से, रास्ता से । २ लिए (भवि) ।

विज्जोअ पुं [विद्योत] उद्योत, प्रकाश; 'जोव्वणं जीविअं रुवं विज्जुविज्जोअचंचलं' (हित ६) ।

विज्जोइय } वि [विद्योतित] प्रकाशित;  
विज्जोविय } चमका हुआ (उप पृ ३३; स ५७६) ।

विज्झ सक [ व्यय् ] वीवना, वेध करता, भेदना । विज्झंति (सूत्र १, ५, १, ६), विज्झते (गा ४४१) संकृ. विट्ठूण (सूत्र १, ५, १, ६) । कृ. विज्झ (पङ्.) ।

विज्झ अक [ वि + घट् ] अलग होना । विज्झइ (वात्वा १५२) ।

विज्झ न [ दे ] वीष्, वक्ता, ठेला; 'तो हृद्यो तस्मि पडे विज्झं दाऊण कुमरमणु-मणे' (वर्मवि ८१),

ःताव वणवारणेण य विज्झाइ

(? इ) नरं अपावमाणेण

कुविण्ण विइएणाई धरिण्यं

नगोहक्कल्लिमि' (स ११३) ।

विज्झ वि [ विट् ] विधा हुआ; 'जइ तं पि तेण वारणेण विज्झमे जेण हं विज्झा' (गा ४४१) ।

विज्झ देखो विज्झ = व्यय् ।

विज्झडिय वि [ दे ] १ मिश्रित, व्याप्त; 'सोउएहखरपसवायविज्झडिया' (भग ७, ६—पत्र ३०७; उत्र) ।

विज्झल देखो विज्झल = विह्वल (भग ७, ६ टी—पत्र ३०८) ।

विज्झन्न सक [ वि + ध्यापय् ] बुझाना, दीपक आदि को गुल करना, ठंडा करना । विज्झन्नइ (गउड; कुत्र ३६७) । कर्म. विज्झन्नइ (गा ४०७; स ४८६) । संकृ. विज्झन्नैऊणं, विज्झन्निय (वर्मसं ६५८; स ४६६) । कृ. विज्झन्नियव्व (पउम ७८, ३७) ।

विज्झन्नण बीन [ विध्यापन ] बुझाना, उप-शान्ति (स ४८६; सम्मत्त १६२; कुप्र २७०) । बी. °णा (संथा १०६) ।

विज्झन्निय वि [ विध्यापित ] बुझाया हुआ, गुल किया हुआ, ठंडा किया हुआ (सि ८, १६; १२, ७७; गा ३३३; पउम २०, ६२) ।

विज्झा } अक [ वि + ध्यै ] बुझना, ठंडा  
विज्झाअ } होना, गुल होना । विज्झाइ (गा ४३०; हे २, २८) । वकृ. विज्झाअंत (गा १०६) ।

विज्झाअ } वि [ विध्यात ] १ बुझा हुआ,  
विज्झाअ } उपशान्त (सि १, ३१; णाय्या १, १—पत्र ६६; १, १४—पत्र १६०)

गउड; सुपा ४४८; प्रासू १३७; पउम ५, १८२) । २ संक्रम-विशेष; 'विज्झायनाम-णेणं संक्रममेतेण सुज्झंति' (सम्यक्त्वो २१) ।

विज्झाव देखो विज्झव । विज्झावेइ (गा ८३६) ।

विज्झावण देखो विज्झवण (उप २६४ टी) ।

विज्झाविअ देखो विज्झविअ (महा) ।

विज्झिडिय पुं [ दे ] मत्स्य की एक जाति (पण्ण १—पत्र ४७) ।

विटंक देखो विडंक (माल २३४; राज) ।

विट्ठाल सक [ दे ] अस्पृश्य करना, उच्छिष्ट करना, विगाड़ना, दूषित करना, अपवित्र करना । विट्ठालित्त (सुख १, १५) । कर्म. 'विट्ठालिज्जइ गंगा कयाइ कि वासवारोहि' (चेइय १३४) । वकृ. विट्ठालयंत (सिरि ११३२) ।

विट्ठाल पुं [ दे ] अस्पृश्य-संसर्ग, उच्छिष्टता, अपवित्रता; 'तुह धरम्मि चंडालो, विट्ठालं कुणइ'; 'सा धरवाहि चिट्ठइ भुंजइ य, न तेण देव विट्ठालो' (कुप्र २४३; हे ४, ४२२) ।

विट्ठालण न [ दे ] ऊपर देखो (स ७०१) ।

विट्ठालि वि [ दे ] विगाड़नेवाला, अपवित्र करनेवाला । बी. °णी (कप्पू) ।

विट्ठालिअ वि [ दे ] उच्छिष्ट किया हुआ, अपवित्र किया हुआ, विगाड़ा हुआ (वर्मवि ४५; सिरि ७१६; सुपा ११५; ३६०; महा) ।

विट्ठी बी [ दे ] गठरी, पोटी (श्लोष ३२४) । देखो विटिया ।

विट्ठ वि [ वृट् ] बरसा हुआ (हे १, १३७; पङ्.) ।

विट्ठ वि [ विट् ] १ प्रविष्ट, पैठा हुआ (सूत्र १, ३, १, १३) । २ उपविष्ट, बैठा हुआ (पिड ६००) ।

विट्ठ वि [ दे ] सुप्तोत्थित, सो कर उठा हुआ (पङ्.) ।

विट्ठअ न [ विटप ] भुवन, जगत् (मृच्छ १०६) ।

विट्ठंभ सक [ वि + ट्ठंभय् ] १ रोकना । २ स्थापित करना, रखना । विट्ठंभंति (श्लोप) । संकृ. विट्ठंभित्ता (श्लोप) ।

विट्ठंभणया बी [ विट्ठंभना ] स्थापना (श्लोप) ।

विट्ठर पुंन [ विट्ठर ] आसन; 'विट्ठरो' (प्राप्र; पउम ८०, ७; पाप्र; सुपा ६०) ।

विट्ठा बी [ विट्ठा ] बीट, पुरीष, मल (पाप्र; श्लोपभा २६६; प्रासू १५८) । °हर न [ °गृह ] मलोत्सर्ग-स्थान, टट्टी (पउम ७४, ३८) ।

विट्ठि बी [ विट्ठि ] १ कर्म, काज, काम (दे २, ४३) । २ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक करण, श्रद्धं तिथि (वित्ते ३३४८; स २६५; गण १६) । ३ भद्रा नक्षत्र (सुर १६, ६०) । ४ वेगार, मज्जरी दिए बिना ही जवरदस्ती या वेमन का कराया जाता काम (उर ६, ११) ।

विट्ठि बी [ वृट् ] वर्षा, वारिष्ठा (हे १, १३७; प्राकृ ८; संक्षि ५; पउम २०, ८७; कुमा; रंभा) । देखो बुट्ठि ।

विट्ठित वि [ दे ] अजित (पङ्.) ।

विट्ठिय न [ विस्थित ] विशिष्ट स्थिति (भग ६, ३२ टी—पत्र ४६६) ।

विड पुं [ विट ] १ भँडू, आ (कुमा; सुर, ३, ११६; रंभा) ।

विड न [ विड ] लवण-विशेष, एक तरह का नमक (दस ६, १८) ।

विडंक पुंन [ विटङ्क ] कपोतपाली, प्रासाद आदि के श्रांगे की शोर काठ का बना हुआ पक्षियों के रहने का स्थान, छतरी (णाय्या १, १—पत्र १२; दे ७, ८६; गउड) ।

विडंकिआ बी [ दे ] वेदिका, वेदी, चौतरा (दे ७, ६७) ।

विडंग देखो विडंके (परह १, १—पत्र ८) ।

विडंग पुंन [ विडङ्ग ] १ श्लोपध-विशेष । २ वि. अभिज्ञ, विदग्ध;

'विज्ज न एसो जरयो न

य वाही एस कोवि संभूयो ।

उवसमइ सलोएणं विडंगजोया-

मयरतेणं' (वज्जा १०४) ।

विडंभ सक [ वि + डंभय् ] १ तिरस्कार करना, अपमान करना । २ दुःख देना । ३ नकल करना । विडंभइ, विडंभंति, विडंभेमि (भवि; कुप्र १६४; स ६६३) । वकृ.

विडंबंत (पउम ८, ३२) । कवक, विडंबिजंत (सुपा ७०) ।

विडंब सक [ वि + डम्बय् ] विवृत करना, फैलाना । विडंबेइ (भग ३, २—पत्र १७३) ।

विडंब पुंन [विडम्ब] १ तिरस्कार, अपमान (भवि) । २ माया-जाल, प्रपंच; 'अणिन्त्वं च कामाण सेवाविडंबं' (श्रु ६; कप्पु) ।

विडंबग वि [विडम्बक] विडंबना-जनक; 'जइवेसविडंबगा नवर' (संबोव १४; उव) ।

विडंबण न [विडम्बन] नीचे देखो (भवि) ।

विडंबणा छी [विडम्बना] १ तिरस्कार, अपमान (दे) । २ दुःख, कष्ट (वण ४२) । ३ अनुकरण, नकल । ४ उपहास । ५ कपट-वेप (कप्पु) ।

विडंबिय वि [विडम्बित] विडम्बना-प्राप्त (कप्पु; गउड; ३०२) ।

विडम्भमाण वि [विडम्भमान] जो जलाया जाता हो वह, जलता हुआ (आचा १, ६, ४, १) ।

विडड्ड देखो विडड्ड (गा ६७१) ।

विडप्प पुं [दे] राहु (दे ७, ६५; पाग्र; विडय } गउड; वज्जा ६८; दे ७, ६५) ।

विडय पुं [विटप] १ पल्लव (सुर ३, ४५) । २ शाखा (भवि ११०) । ३ पल्लव-विस्तार । ४ स्तम्भ गुच्छा (प्राप्र) ।

विडवि पुं [विटपिन] वृद्ध, पेड़, दरस्त (पाग्र; सुपा ८८; गउड; सण) ।

विडविड } सक [ रचय् ] बनाना, निर्माण  
विडविडु } करना । विडविडइ, विडविडुइ (हे ४, ६४; पड्) । भूका, विडविडुग्र (कुमा) ।

विडिअ वि [त्रीडित] लज्जित (मे ११, ५०; पि ८१) ।

विडिअिअ } वि [दे] विकराल, भीषण,  
विडिअिअ } भयंकर (दे ७, ६६) ।

विडिम पुं [दे] १ बाल-मृग (दे ७, ८६) । २ गण्डक, गेंडा (दे ७, ८६; गउड) । ३ वृद्ध, पेड़; 'डुमा य पायवा रुक्का आगमा विडिमा तरु' (दसन १, ३५) । ४ शाखा (पएह २, ४—पत्र १३०; औप; तंदु २१) ।

विडिमा छी [दे] शाखा (पएह २, ४; तंदु २१; राज) ।

विडुच्छअ वि [दे] निपिद्ध; प्रतिपिद्ध (पड्) ।

विडुविह वि [दे] भीषण, भयंकर (नाट—मालती १३७) ।

विडूर पुं [विटूर] १ पर्वत-विशेष । २ देश-विशेष, जहाँ वैदूर्य रत्न पैदा होता है (कप्पु) ।

विडोमिअ पुं [दे] गण्डक मृग, गेंडा (दे ७, ५७) ।

विडु वि [दे] १ दीर्घ, लम्बा (दे ७, ३३) । २ प्रपंच, विस्तार (दे १, ४) ।

विडु वि [त्रीड, त्रीडित] लज्जित, शरमिन्दा; 'लज्जिया विलिया विडु' (निर १, १; पि २४०) ।

विडुर देखो विडुरि; 'अकंडविडुरमेयं कि देव पारदं' (उप ७६८ टी) ।

विडुा छी [त्रीडा] लज्जा, शरम (दे ७, ६१; पि २४०) ।

विडुार न [विटुार] देखो विडुर (राज) ।

विडुर न [दे] १ आभोग (दे ७, ६०) । २ आटोप, आडम्बर (पाग्र) । ३ वि. रौद्र भयंकर (दे ७, ६०) ।

विडुरिहा छी [दे] रात्रि, निशा (दे ७, ६७) ।

विडुम देखो विडुम (पाग्र) ।

विडुुरी छी [दे] आटोप, आडम्बर; 'कि लिगविडुुरीघारणेण' (उव) ।

विडुुरिह वि [वैडूर्ययत्] वैदूर्य रत्नवाला (सुपा ५६) ।

विडुुरे न [दे. विडुरे] नक्षत्र-विशेष, पूर्व द्वारवाले नक्षत्रों में पूर्व दिशा से जाने के बदले पश्चिम दिशा से जाने पर पड़ता नक्षत्र (विसे ३४०६) । देखो विडुार ।

विडुु (श्री) सक [वि + दह्] जलाना । संक्र. विडुुअ (पि २१२) ।

विडुणा छी [दे] पाण्डि, फोली का नीचला भाग (दे ७, ६२) ।

विडुत्त वि [अजित] उपाजित, पैदा किया हुआ (हे ४, २५८; गउड; आ १०; प्रासू ७४; भवि) ।

विडुत्ति छी [अजिति] अजंत, उपाजंत (आ १२) ।

विडुप्प अक [व्युत् + पड्] व्युत्पन्न होना । विडुप्पति (प्राक ६४) ।

विडुप्प नीचे देखो ।

विडव सक [अर्ज] उपाजंत करना. पैदा करना । विडवइ (हे ४, १०८; महा; भवि) । कमं. विडविजइ, विडुप्पइ (हे ४, २५१; कुमा; भवि) ।

विडवण न [अर्जत] उपाजंत (सुर १, २२१) ।

विडविअ वि [अर्जित] पैदा किया हुआ (कुमा; सुपा २८०; महा) ।

विडिअ वि [वेष्टित] लपेटा हुआ (सुपा ३८८) ।

विणइ वि [विनयिन्] दूर करनेवाला; 'आरंभविणइण' (आचा) ।

विणइत्त वि [विनयवत्] विनयवाला, विनय को ही सर्व-प्रधान माननेवाला (सुअनि ११८) ।

विणइत्तु वि [विनेत्] विनोत बनानेवाला, विनय को शिक्षा देनेवाला (उत्त २६, ४) ।

विणइत्तु देखो विणी = वि + नी ।

विणइय वि [विनयित] शिक्षित किया हुआ, सिखाया हुआ (राज) । देखो विणगय ।

विणइह देखो विणइत्त (कुमा) ।

विणएत्तु देखो विणी = वि + नी ।

विणट्ट वि [विनट्ट] विनाश-प्राप्त (उव; प्रासू ३१; नाट—मृच्छ १५२) ।

विणड सक [वि + नटय्, वि + गुप्] १ व्याकुल करना । २ विडम्बना करना । विणडेइ (गउड ६८), विणडंति (उव), विणडउ (हे ४, ३८५; पि १००) ।

विणडिअ देखो विनडिअ (गा ६३० टी) ।

विणण न [वान] बुनना (वृह १) ।

विणभ सक [खेदय्] खिन्न करना । विणभइ (घात्वा १५३) ।

विणम सक [वि + नम्] विशेष रूप से नमना । क्व. विणमंत (नाट—मालवि ३४) ।

विणमि देखो विनमि (राज) ।



विणमिअ वि [विनत्त] विशेष ह्य से नत्त  
(भग; औप; राया १, १ टी—पत्र ५) ।

विणमिअ वि [विनमित] नमाया हुआ  
(गडड) ।

विणय पुं [विनय] १ अन्वुत्थान; प्रणाम  
आदि भक्ति, श्रुत्यूपा, शिष्टता, नम्रता (आचा;  
ठा ४, ४ टी—पत्र २८३; कुमा उवा; औप;  
गडड; महा; प्रासू =) । २ संयम,  
चारित्र्य (सन ५१) । ३ नरकावास-विशेष,  
एक नरक-स्थान (दिवेन्द्र २६) । ४ अपनयन,  
दूरोकरण । ५ शिक्षा, सीख । ६ अनुनय ।  
७ वि. विनय-युक्त, विनीत । ८ निमृत्त,  
शान्त । ९ क्षिप्त, फेंका हुआ । १० चित्तेन्द्रिय,  
संयमी (हे १, २४५) । ११ पुं. शात्रानुसार  
प्रजा का पालन (गडड ६७) । १२ मंत वि  
[°वन्] विनय-युक्त (उप पृ १६६) ।

विणय वि [विनत्त] १ विशेष ह्य से नमा  
हुआ (औप) । २ पुं. एक देव-विमान (सन  
३७) ।

विणय° देखो विणया । तणय पुं [°तनय]  
गडड पक्षा (वजा १२२) । सुअ पुं [°सुत्त]  
वही अर्थ (पाप्र) ।

विणयइत्तु देखो विणइत्तु (सुख २६, ४) ।

विणयंधर पुं [विनयन्धर] एक शेर का नाम  
(उप ७२८ टी) ।

विणयण न [विनयण] विनय-शिक्षा, शिक्षण;  
'आचारदेसणायां आयरिया, विणयणाडुव-  
ज्जाया' (विसे ३२००) ।

विणया स्त्री [विनता] गडड की माता का  
नाम (गडड) । तणय पुं [°तनय] गडड  
पक्षा (से १४, ६१; सुपा ३५४) ।

विणस देखो विणरस । विणसइ (उर ७, ३;  
कुमा ८, २१) ।

विणसिर वि [विनश्चर] विनाश-शील; नश्चर  
(दे १, ६०) ।

विणरस अक [वि + नञ्] नष्ट होना,  
विन्यस्त होना । विणरसइ, विणरसए,  
विणरसं (उर; महा; वमंसं ४०१) । भवि.  
विणरसहिमि (महा) । बह. विणरसमाण  
(उवा) । क. विणरस (वमंसं ४०२; ४०३) ।

विणरसर देखो विणसिर (पि-३१५) ।

विणा अ [विना] सिवाय, बिना (गडड; प्रासू  
१०; १५६; दे १७) ।

विणामिद् (श्री) देखो विणमिअ = विनमित  
(नाट—मृच्छ २१८) ।

विणायग पुं [विनायक] यज्ञ, एक देव-जाति;  
'तव्येव आनयो सो विणायगो पूयणो नाम'  
(पउम ३५, २२) । २ गणपति, गणेश  
(सट्टि ७८ टी) । ३ गडड (पउम ७१, ६७) ।  
'त्य न [°त्त] अक-विशेष, गडडान्न (पउम  
७१, ६७) ।

विणास देखो विणरस । विणासइ (भवि) ।

विणास सक [वि + नाशय्] वृत्त करना,  
नष्ट करना । विणासेइ (उर; महा) । भवि.  
विणासिहो, विणासेहामि (पि ५२७; ५२८) ।  
कर्म. विणासिज्जइ (महा) । कवक. विणा-  
सिज्जंत (महा) । क. विणासियव्व (सुपा  
१४५) ।

विणास पुं [विनाश] विवृत्त (उर; हे ४,  
४२४) ।

विणासग वि [विनाशक] विनाश-कर्ता (द्र  
१७) ।

विणासण न [विनाशन] १ विनाश, विवृत्त  
(भवि) । २ वि. विनाश, कर्ता (परह २, १—  
पत्र ६६; दस ८, ३८) ।

विणासिअ वि [विनाशित] विनाश-प्राप्त  
(पाप्र; महा; भवि) ।

विणि° देखो विणी ।

विणिअंसण न [विनिदर्शन] खात उदाहरण,  
विशेष दृष्टान्त (से १२, ६६) ।

विणिअंसण वि [विनिवसन] बह-रहित,  
नंगा (गा १२५) ।

विणिइत्तु देखो विणइत्तु (उत्त २६, ४) ।

विणिउत्त वि [विनियुक्त] कार्य में प्रवृत्त  
(उप पृ ७५) ।

विणिओग पुं [विनियोग] १ उपयोग; ज्ञान  
(विसे २४३७) । २ कार्य में लगाना (पंचा  
७, ६) । ३ विनिमय, लेनदेन (कुप्र २०६) ।

विणिओय सक [विनि + योजय्] जोड़ना,  
लगाना । विणिओयइ (भवि) ।

विणिगत देखो विणी = विनिर + इ ।

विणिकुट्टिय वि [विनिक्कट्टित] कूट कर  
वैठायी हुआ; 'अभविणिकुट्टियाहि पवराहि  
सावहंजीहि' (सुपा १८८) ।

विणिकम्म देखो विणिकम्म । विणिकम्मइ  
(गडड २७५; पि ४८१) ।

विणिकम्म सक [विनि + कृप्] खींच कर  
निकालना । संक. विणिकम्मस (सुप्र १, ५,  
१, २२) ।

विणिकम्मंत वि [विनिक्कान्त] १ बाहर  
निकला हुआ । २ जितने गृह-त्याग किया हो  
वह, संन्यस्त (उप १४७ टी; कुप्र ३६; महा) ।

विणिकम्मम अक [विनिस् + क्रम्] १  
बाहर निकलना । २ संन्यास लेना । विणि-  
कम्मइ (गडड ८५१; ११८१) । संक.  
विणिकम्ममिच्छा (भग) ।

विणिकम्मण न [विनिक्कमण] १ बाहर  
निकलना । २ संन्यास लेना (पंचा १८, २१) ।

विणिकम्मिच्छ वि [विनिक्कित्त] फेंका हुआ  
(नाट—मृच्छ ११६) ।

विणिकम्मिह सक [विनि + ग्रह्] निग्रह  
करना, दंड देना । बह. विणिकम्मिहंत (उप  
पृ २३) ।

विणिकम्मिह सक [विनि + गृह्य्] गुप्त रखना,  
ढकना । विणिकम्मिहज्जा (आचा २, १, १०,  
२) ।

विणिकम्मपुं [विनिर्गम] निःसरण; बाहर  
निकलना (गडड) ।

विणिकम्मय वि [विनिर्गत] बाहर निकला  
हुआ, बाहर गया हुआ (से २, ५; महा;  
भवि) ।

विणिकम्मय पुं [विनिवात] १ मरण, मौत ।  
२ संसार, भव-भ्रमण (ठा ५, १—पत्र  
२६१) ।

विणिकम्म सक [विनिस् + चि] निश्चय  
करना । विणिकम्मइ (सण) । संक. विणि-  
च्छिऊण (सण) ।

विणिकम्मय पुं [विनिश्चय] निश्चय, निर्णय,  
परिज्ञान (परह १, १—पत्र १; ठा ३, ३;  
उर) ।

विणिकम्मिअ वि [विनिश्चित] निश्चित,  
निर्णीत (भग; उवा; कप्प; सुर २, २०२) ।

विणिजुंज सक [ विनि + युज् ] जोड़ना, कार्य में लगाना, प्रवृत्त करना । विणिजुंजइ (कुप्र ३६१) ।

विणिज्जंतण वि [ विनियन्त्रण ] १ नियन्त्रण-रहित । २ प्रकटित, खुला । ३ निर्व्याज, कपट-रहित (से ११, २१) ।

विणिज्जमाण देखो विणी = वि + नी ।

विणिज्जरण न [ विनिर्जरण ] निर्जरा, विनाश (विसे ३७७६; संबोध ५१) ।

विणिज्जरा ली [ विनिर्जरा ] ऊपर देखो (संबोध ४६) ।

विणिज्जिअ वि [ विनिज्जित ] पराभूत, जिसका पराभव किया गया हो वह (महा; रंभा; नाट—विक्र ६०) ।

विणिह वि [ विनिद्र ] खिला हुआ, विकसित (पात्र) ।

विणिहलिय वि [ विनिर्दलित ] विदारित, तोड़ा हुआ (सण) ।

विणिह्धुण सक [ विनिर् + धू ] कँपाना । वक्र. विणिह्धुणमाण (पि ५०३) ।

विणिष्फन्न वि [ विनिष्पन्न ] संसिद्ध, संपन्न (उप ३६६) ।

विणिष्फिअ वि [ विनिष्फिटित ] विनिर्गत, बाहर निकला हुआ; 'सालिग्गामाउ तओ वंदणहेउं विणिष्फिअओ' (पउम १०५, २३) ।

विणिवुडु देखो विणिवुडु (पि ५६६) ।

विणिभिन्न वि [ विनिभिन्न ] विदारित; 'कुंतविणिभिन्नकरिकलहमुक्कसिक्कारपउरम्मि' (एमि १६) ।

विणिमील्लिअ वि [ विनिमील्लित ] मीचा हुआ, मूँदा हुआ; 'अलिअपपुत्तअविणिमीलिअच्छ दे सुहअ मज्झ ओआस' (गा २०) ।

विणिमुक्क देखो विणिम्मुक्क (पि ५६६) ।

विणिमुय देखो विणिम्मुय । वक्र. विणिमुयंत (औप; पि ५६०) ।

विणिम्मविअ वि [ विनिर्मित ] विरचित, बनाया हुआ, कृत (उप ७२८ टी) ।

विणिम्माण न [ विनिर्माण ] रचना, कृति (विसे ३३१२) ।

विणिम्मिअ देखो विणिम्मविअ (गा १५६; २३५; पात्र; महा) ।

विणिम्मुक्क वि [ विनिर्मुक्त ] परित्यक्त; 'सव्व-कम्मविणिम्मुक्कं तं वयं वूम माहणं' (उत्त २५, ३४) ।

विणिम्मुय वि [ विनिर् + मुच् ] छोड़ना, परित्याग करना । वक्र. विणिम्मुयमाण (गाया १, १—पत्र ५३; पि ४८५) ।

विणिय देखो विणीअ (भवि) ।

विणियट्ट देखो विणिवट्ट । विणियट्टिज्ज (वस ८, ३४) । वक्र. विणियट्टमाण (आचा १, ५, ४, ३) ।

विणियट्ट वि [ विनिवृत्त ] १ पीछे हटा हुआ । २ प्रणष्ट 'विणियट्टं ति पणट्टं' (वेइय ३४६) ।

विणियट्टणया ली [ विनिवर्तना ] निवृत्ति (उत्त २६, १) ।

विणियत्त देखो विणियट्ट (सुपा ३३५; भवि; गा ७१; कुप्र १८२) ।

विणियत्ति ली [ विनिवृत्ति ] निवृत्ति, उपरम (कुप्र १८२; गउड) ।

विणिरोह पुं [ विनिरोध ] प्रतिवन्ध, श्रटकाव (भवि) ।

विणिवट्ट अक्क [ विनि + वृत् ] निवृत्त होना, पीछे हटना । वक्र. विणिवट्टमाण (आचा १, ५, ४, ३) ।

विणिवट्टण देखो विणियट्टण (राज) ।

विणिवट्टणया ली [ विनिवर्तना ] निवर्तन, विराम (भग १७, ३—पत्र ७२७) ।

विणिवडिअ वि [ विनिपतित ] नीचे गिरा हुआ (दे १, १५७) ।

विणिवत्ति देखो विणियत्ति (उप ७२८ टी) ।

विणियाइ वि [ विनिपातिन् ] मार गिराने-वाला (गा ६३०) ।

विणियाइज्जंत देखो विणिवाए ।

विणियाइय न [ विनिपातिक ] एक तरह का नाटक (राज) ।

विणियाइय वि [ विनिपातित ] मार गिराया हुआ, व्यापादित (उप ६४८ टी; महा; स ५६; सिक्खा ८२) ।

विणिवाए सक [ विनि + पातय् ] मार गिराना । कवक. विणिवाइज्जंत (पउम ४५, ८) ।

विणियाडिअ देखो विणियाइय (दे १, १३८) ।

विणियाद पुं [ विनिपात ] १ निपात, विणियाय } अन्तिम पतन, विनाश; 'पर-सगणेण वि विट्ठो विणियादो कि न लोगम्मि' (धम्मसं १२५; १२६; स २६५; ७:२) । २ मरण, मौत (से १३, १६; गउड; गा १०२) । ३ संसार (राज) ।

विणियायण न [ विनिपातन ] मार गिराना (पउम ४, ४८) ।

विणियार सक [ विन + वारय् ] रोकना, निवारण करना, निषेध करना । विणियारइ (भवि) । कवक. विणियारीअंत (नाट—मृच्छ १५४) ।

विणियारण न [ विनिवारण ] १ निवारण, प्रतिषेध । २ वि. निवारण करनेवाला (पंचा ७, ३२) ।

विणियारि वि [ विनिवारिन् ] निवारण-कर्ता (पंचा ७, ३२) ।

विणियारिय वि [ विनिवारित ] प्रतिषिद्ध, निवारित (महा) ।

विणिविट्ट वि [ विनिविट्ट ] १ उपविट्ट, स्थित (कुप्र १५२); 'सकम्मविणिविट्टसरिसकयचेट्ठो' (उव; वै ६०) । २ आसक्त, तल्लीन (आचा) ।

विणिवित्त देखो विणियट्ट (उप ७८६) ।

विणिवित्ति देखो विणियत्ति (विसे २६३६; उवर १२७; आचक २५१; २५२; पंचा १, १७) ।

विणिवुडु वि [ विनिमग्न ] निमग्न, बुड़ा हुआ, तरावार, सरावोर; 'तइया ठिओ सि जं किर पलोट्टसंरंभसेयविणिवुडु' (गउड ४६०) ।

विणिवेइअ वि [ विनिवेदित ] जनाया हुआ, ज्ञापित (से १४, ४०) ।

विणिवेस पुं [ विनिवेश ] १ स्थिति, उप-वेशन । २ विन्यास, रचना (गउड) ।

विणिवेसिअ वि [ विनिवेशित ] स्थापित, रखा हुआ (गा ६७४; मुर ३, ६५) ।

विणिञ्जर न [ दे ] पश्चात्ताप, अनुशय (दे ७; ६८) ।

विणिञ्चवण न [विनिर्दपन] शान्ति, दाहो-  
पथम (गउड) ।

विणिस्सरिय वि [विनिःसृत] वाहर निकला  
हुआ (सण) ।

विणिस्सह वि [विनिस्सह] श्रान्त, थका  
हुआ; 'कइयावि घणुपरिस्समविणस्सहो दीही-  
यासु मज्जेइ' (सुपा ५६) ।

विणिहं देखो विणिहण ।

विणिहट्टु देखो विणिहा ।

विणिहण सक [विनि + हन्] मार डालना ।  
विणिहणेजा, विणिहंति (सुअ १, ११, ३७;  
१, ७, १६) । कर्म. विणिहम्मंति (उत्त  
३, ६) ।

विणिहय वि [विनिहत] जो मार डाला गया  
हो, व्यापादित (महा) ।

विणिहा सक [विनि + धा] १ व्यवस्था  
करना । २ स्थापन करना । संक. विणिहट्टु,  
विणिहाय, विणिहित्तु (वेइय २६८; सुअ  
१, ७, २१; कप्प) ।

विणिहाय देखो विणिघाय (खाया १, १४—  
पत्र १८६) ।

विणिहिअ } वि [विनिहित] स्थापित (गा  
विणिहित्त } ३६१; सुपा ६२) ।

विणिहित्तु देखो विणिहा ।

विणी अक [विनिर् + इ] वाहर निकलना ।  
विणिति, विणिति (गा ६५४; पि ४६३) ।  
वक. विणित (गउड १३८) ।

विणी सक [वि + नी] १ दूर करना, हटाना ।  
२ विनय-ग्रहण कराना । विणिति (खाया  
१, १—पत्र २६; ३०), विणिज्जामि,  
विणइज्ज, विणएज्ज, विणोउ (खाया १, १—  
पत्र २६; सुअ १, १३, २१; वि ४६०;  
खाया १, १—पत्र ३२) । भूका. विणइंसु  
(सुअ १, १२, ३) । भवि. विणोहिइ (पि  
५२१) । वक. विणेमाण (खाया १, १—  
पत्र ३३) । कवक. विणिज्जमाण (खाया १,  
१—पत्र २६) । हेक. विणएत्तु (आचा १,  
५, ६, ४; पि ५७७) ।

विणीअ वि [विनीत] १ अपनीच, दूर किया  
हुआ, हटाया हुआ (खाया १, १—पत्र ३३);  
'सव्वदब्बेसु विणीयतरहे' (उत्त २६, १३) ।

२ विनय-युक्त, नम्र, शिष्ट (ठा ४; ४—पत्र  
२८५; सुपा ११६; उव) । ३ शिक्षित; 'भदो  
विणीअविणयो' (उव ६) ।

विणीआ वी [विनीता] श्रयोव्या नगरी (सम  
१५१; कप्प; पउम ३२, ५०; ती १) ।

विणील वि [विनील] विशेष हरा रंग का  
(गउड) ।

विणु (अप) देखो विणा (हे ४, ४२६; पड;  
हम्मोर २८; कुलक १२; भवि; कम्म २, ६;  
२६; २७; ३, ५; कुमा) ।

विणेअ वि [विनेय] शिक्षणीय, शिष्य,  
अन्तेवासी, चेला (सार्ध ७०; उव १०३१  
टी) ।

विणेमाण देखो विणी = वि + नी ।

विणेअ सक [वि + नोदय] १ खरिडत  
करना । २ दूर करना, हटाना । ३ खेल  
करना । ४ कुतूहल करना । विणोएइ,  
विणोवेमि (गउड), विणोवेमि (शौ) (स्वप्न  
५१) । भवि. विणोदइस्तामो (शौ) (पि  
५२८) । वक. विणोदअंत (शौ) (नाट—  
उत्तर ६५) । कवक. विणोदीअमाण (शौ)  
(नाट—मालवि ४५) ।

विणेअ पुं [विनोद] १ खेल, क्रीड़ा । २  
कौतुक, कुतूहल (गउड; सिरि ५६; सुर ४,  
२१६; हे १, १४६) ।

विणेअ वि [विनोदित] विनोद-युक्त किया  
हुआ (सुर ११, २३८; सण) ।

विणेअंत देखो विणेअ = वि + नोदय ।

विणोयक } वि [विनोदक] कुतूहल-जनक  
विणोयग } (रंभा) ।

विणोयण न [विनोदन] १ अपनयद, दूर  
करना; 'परिस्समविणोयणत्थं' (उव १०३१  
टी; कुप १४७) । २ कुतूहल, कौतुक (गा  
४८७) ।

विण देखो विणु (संकि १६) ।

विणइदब्ब देखो विणणव ।

विणणत्त वि [विणत्त] निवेदित (सुपा २२) ।

विणणत्ति वी [विणत्ति] १ निवेदन, प्रार्थना  
(कुमा) । २ ज्ञान (सुअ १, १२, १७) ।

विणणत्ति वी [विणत्ति] विज्ञान, विनिर्णय  
(एदि १३४) ।

विणणय देखो विणइय (ठा १०—पत्र  
५१६) ।

विणणय देखो विणण (विपा १, २—पत्र  
३६; १, ८—पत्र ८४) ।

विणणय सक [वि + ज्ञपय] १ विनती  
करना, प्रार्थना करना । २ मालूम करना,  
विदित करना । ३ कहना । विणणवइ,  
विणणवेमि, विणणवेमो (पि ५५३; ५५१) ।  
भवि. विणणविस्सं (संकि ४१) । वक.  
विणणवंत (काल) । संक. विणणविअ  
(नाट—मृच्छ २६४) । हेक. विणणविट्टु  
(शौ) (अभि ५३) । क. विणणइदब्ब (शौ)  
(पि ५५१) ।

विणणवणा वी [विज्ञापना] विज्ञापन, निवे-  
दन (उवा) । देखो विणवणा ।

विणणा सक [वि + ज्ञा] जानना । संक.  
विणणाय (दत्त ८, ५६) । क. विणणय  
(काल) ।

विणणाउ देखो विण्णाउ (राज) ।

विणणा देखो विण्णाण (उवा; महा; पड) ।  
विणणाण न [विज्ञान] अवाय-ज्ञान, निश्च-  
यात्मक ज्ञान (एदि १७६) ।

विणणाणि वि [विज्ञानिन्] निपुण, विचक्षण  
(कुमा) ।

विणणाय वि [विज्ञात] १ जाना हुआ;  
विदित (पाअ, गउड १२०) । २ न. विज्ञान  
(कप्प) ।

विणणाय देखो विणणव । विणणवेमि, विणण-  
वेहि (मा ३८; ३६) ।

विणणास वि [वि + न्यासय] स्थापना  
करना, रखना । वक. विणणासंत (पउम  
४३, २६) ।

विणणास देखो विण्णास (मा ५१) ।

विणणासणा वी [विन्यासना] स्थापना (उप  
३५४) ।

विणु } वि [विज्ञ] परिदत्त, जानकार,  
विणुअ } विद्वान् (भग; प्राक १८) ।

विणुय देखो विणणा ।

विण्हावणक न [विस्नापनक] मन्त्र आदि  
द्वारा संस्कृत जल से कराया जाता स्नान  
(परह १, २—पत्र ३०) ।

विण्ह देखो वण्ह = वृष्णि (राज)।  
 विण्हु पुं [विष्णु] ? नगवान्, श्रेयांसनाय के पिता का नाम (सम १५१)। २ श्रवण नक्षत्र का अधिपति देव (ठा २, ३—पत्र ७७)। ३ मधुवंश के राजा अश्वकवृष्णि का नववां पुत्र (अंत ३)। ४ एक जैन मुनि, विष्णुकुमार नामक मुनि (कुलक ३३)। ५ एक श्रेष्ठो (उप १०६४)। ६ वामुदेव, नारायण, श्रीकृष्ण। ७ व्यापक। ८ बलि, अग्नि। ९ शुद्ध। १० एक स्मृति-कर्ता मुनि (हे २, ७५)। ११ श्रापं जेहिल के शिष्य एक जैन मुनि (राज)। १२ श्री. ग्यारहवें जिनदेव की माता का नाम (सम १५१)। १३ कुमार पुं [कुमार] एक विस्वात जैन मुनि (पाठ)। १४ सिरी श्री [श्री] एक सायंवाह-नक्षो (महा)। देखो विण्हु।  
 वितंड देखो वितह (प्राचा)।  
 वितण्ह वि [वितृष्ण] वृष्णा-रहित, निःस्मृह (उप २६४ टी)।  
 वितन पुं [वितत] ? वाद्य का एक प्रकार का शब्द (ठा २, ३—पत्र ६३)। २ एक महाग्रह (मुज्ज २०—पत्र २६५)। देखो विअत्त। ३ देखो विअथय = वितत (ठा ४, ४—पत्र २७१)।  
 वितत न [दे] कार्य, काम काज (दे ७, ६५)।  
 वितत्त वि [वितृष्ण] विशेष वृत्त (पण्ह १, ३—पत्र ६०)।  
 वितत्थ पुं [वित्रस्त] ? एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)। २ वि. भय-नीत, उरा हुआ (महा)।  
 वितरथा श्री [वितस्ता] एक महा-नदी (ठा ५, ३—पत्र ३५१)।  
 विदद वि [वितर्द] ? हिंसक। २ प्रतिकूल (प्राचा)।  
 वितर देखो विअर = वि + तृ। वितराम, वितरामो (पि १०; ४५५)।  
 वितर (अप) अक्र [वि + स्तारय] विस्तार करना। वितर (पिग)।  
 वितरण देखो विअरण = वितरण (राज)।  
 वितल वि [वितल] शबल, चितकवरा (राज)।

वितह वि [वितथ] मिव्या, असत्य, सूका (प्राचा; कम्प; सण)।  
 वितिकिच्छिअ वि [वितिकिस्सित] फल को तरह संदेह वाला (भग)।  
 वितिकिष्ण देखो विइकिष्ण (निचु १६)।  
 वितिकंत देखो विइकंत (भग)।  
 वितिगिळ सक [वि + चिकिस्स] ? विचार करना, विमर्श करना। २ संशय करना। ३ निन्दा करना। वितिगिळइ (सूत्र २, २, ४६; ५०; पि ७४; २१५)।  
 वितिगिळा देखो वितिगिळ्ळा (प्राचा १, ३, ३, १; १, ५, ५, २; पि ७४)।  
 वितिगिळ्ळिय देखो वितिकिच्छिअ (पि ७४; २१५)।  
 वितिगिळ्ळ देखो वितिगिळ। वितिगिळ्ळामि (पि २१५; ३२७)।  
 वितिगिळ्ळा श्री [वितिकिस्सा] ? संशय, शंका, बहस (सूत्र १, ३, ३, ५, पि ७४)। २ चित्त-विप्लव, चित्त-भ्रम। ३ निन्दा (सूत्र १, १०, ३; पि ७४)।  
 वितिगिळ्ळिअ देखो वितिकिच्छिअ (भग)।  
 वितिगिट्ट देखो विइगिट्ट (राज)।  
 वितिगिर वि [वितिगिर] ? अन्वकार-रहित, विशुद्ध, निर्मल (सम १३७; पण्ह १७—पत्र ५१६; ३६—पत्र ८४७; कम्प)। २ अज्ञान-रहित (श्रीप)। ३ पुं, ब्रह्म-देवलोक का एक विमान-प्रस्तुत (ठा ६—पत्र ३६७)।  
 वितिगिच्छ वि [वितिगिच्छ] बक्र, टेढ़ा (स ३३५; पि १५१; नग ३, २—पत्र १७३)।  
 वित्त वि [दे] दीर्घ, लम्बा (दे ७, ३३)।  
 वित्त न [वित्त] ? द्रव्य, धन (पाय; सूत्र १, २, १, २२; श्रीप)। २ वि. प्रसिद्ध, विख्यात (सूत्र २, ७, २; उक्त १, ४४)। ३ म वि [वित्त] धनी (द्र ५)।  
 वित्त न [वृत्त] ? छन्द, पद्य, कविता (सूत्रनि ३८; सम्मत्त ८३)। २ चरित्र, आचरण (सिरी १०६३)। ३ वृत्ति, चर्तन (हे १, १२८)। ४ वि. उत्पन्न, संजात (स ७३७; महा)। ५ श्रवीत, गुजरा हुआ (महा)। ६ दड़, मजबूत। ७ चर्तुंल, गोल। ८ श्रवीत,

पठित। ९ मृत (हे १, १२८)। १० संसिद्ध, पूर्ण (सुर ४, ३६; महा)। ११ प्राय वि [प्राय] पूर्ण-प्राय (सुर ७, ८४)। देखो वृद्ध = वृत्त।  
 वित्त देखो वेत्त = वेत्त (सूत्रनि १०८)।  
 वित्त देखो पित्त (उप ५२२)।  
 वित्तइ वि [दे] ? गवित, अभिमानो। २ पुं. विलसित, विलास। ३ गर्व, अहंकार (दे ७, ६१)।  
 वित्तंत पुं [वृत्तान्त] समाचार, खबर (पउम २३, १८; सुपा २०४; भवि)।  
 वित्तत्थ देखो वितत्थ (सुल ६, १; नाट—वेणो २६)।  
 वित्तथिय देखो वट्टिअ, वत्तिअ = वत्तित (भवि)।  
 वित्तास सक [वि + त्तासय] भयभीत करना, डराना। वित्तासए (उक्त २, २०)। वक्र. वित्तासंत (पउम २८, २६)।  
 वित्तास पुं [वित्रास] भय, त्रास, डर (सुपा ४४१)।  
 वित्तासण न [वित्रासन] भय-प्रदर्शन (प्राप)।  
 वित्तासिअ वि [वित्रासित] डरा कर भाग्या हुआ (सुपा ६५२)।  
 वित्ति पुं [वेत्तिन्] दरवान, प्रतोहार (कम्म १, ६)।  
 वित्ति श्री [वृत्ति] ? जीविका, निर्वाह-साधन (याया १, १—पत्र ३७; स ६७६; सुर २, ४६)। २ टीका, विवरण (सम ४६; विस १४२२; सार्ध ७३)। ३ चर्तन, आचरण। ४ स्थिति। ५ कौशिकी आदि रचना-विशेष। ६ अन्तःकरण आदि का एक तरह का परिणाम (हे १, १२८)। ७ अ वि [दे] वृत्ति देनेवाला (श्रीप; अंत; याया १, १ टी—पत्र ३)। ८ आर वि [कार] टीका-कार, विवरण-कर्ता (कम्प)। ९ च्छेद, छेद्य [च्छेद] जीविका-विनाश (प्राचा; सूत्र १, ११, २०)। देखो वित्ती° = वृत्ति।  
 वित्तिअ वि [वित्तिक] वित्त से युक्त, धन-वाला, वैभवशाली (श्रीप; अन्त; याया १, १ टी—पत्र ३)।

विती° देखो वित्त = वृत्त । °कल्प वि  
[°कल्प] गिद्धप्राय, पूरण-प्राय (तंदु ७) ।

विती° देखो वित्ति = वृत्ति । °संखेय पुं  
[°संखेय] बाह्य तप का एक भेद—ब्राने,  
पीने और भोगने की चीजों को कम करना  
(सम ११) । °संखेयण न [°संखेयण]  
वही अर्थ; 'वित्तिसंखेयणं रसञ्चाद्यो' (नव  
२८; पडि) ।

वित्तेस वि [वित्तेश] घनी, श्रीमंत (उव  
७२८ टी) ।

वित्थ पुंन [वित्थ] चुबरां, सोना (से १, १) ।

वित्थक अक [वि + रथा] १ त्विर होना ।  
२ विलम्ब करना । ३ विरोध करना । वक्र.  
वित्थकंत (से ३, ४, १३, ७०; ७४) ।

वित्थक देखो वित्थक (स ६३४ टि) ।

वित्थड } वि [विस्तृत] १ विस्तार-युक्त,  
वित्थय } विशाल (भग; औप; पात्र; वसु;  
भवि; गा ४०७) । २ संबद्ध, घटित (से  
१, १) ।

वित्थर अक [वि + स्तृ] १ फैलना । २  
बढ़ना । वित्थरइ (प्राक ७६; स २०१;  
६८४; सिरि ६२७; मन २५) । वक्र.  
वित्थरंत (से ३, ३१; स ६८६) । हेक.  
वित्थरिडं (पि ५०५) ।

वित्थर पुंन [विस्तार] १ विस्तार, प्रपंच  
(गउड) । २ शब्द-समूह (गउड ८६) ।

वित्थर देखो वित्थड; 'तत्थ वित्थरा कज्ज-  
धुरा' (से ४, ४६), 'वित्थरं च तलवट्ट'  
(वज्जा १०४) ।

वित्थरण वि [विस्तरण] १ फैलानेवाला । २  
वृद्धिजरेक (कुमा) ।

वित्थरिअ देखो वित्थड (सुर ३, ५४; सुपा  
३६८; पि ५०५; भवि; सण) ।

वित्थार सक [वि + स्तारय] फैलाना ।  
वित्थारइ (भवि), वित्थारोदि (शौ) (नाट—  
शकु १०३) ।

वित्थार पुं [विस्तार] फैलाव, प्रपञ्च (गउड;  
हे ४, ३६५; नाट—शकु ६) । °रुइ वि  
[°रुचि] सम्पत्त्व-विशेष ब्राला, सब पदार्थों  
को विस्तार से जानने की चाहवाला सम्प-  
त्त्वो (पव १४६) ।

वित्थारइत्तअ (शौ) वि [विस्तारयित्त]  
फैलानेवाला (अभि २८; पि ६००) ।

वित्थारग वि [विस्तारक] फैलानेवाला  
(रंभा) ।

वित्थारण न [विस्तरण] फैलाव; 'सोसमइ-  
वित्थारणमित्तवोयं कश्चो समुल्लावो' (सम्म  
१२२, सिरि १२०७) ।

वित्थारिय वि [विस्तारित] फैलाया हुआ  
(सण; दे) ।

वित्थियण } वि [विस्तीर्ण] विस्तार-युक्त,  
वित्थियन्न } विशाल (नाट—मुच्छ ६४;  
पात्र; भवि) ।

वित्थिय देखो वित्थड (स ६६७; गा ४०७  
अ) ।

वित्थिर न [दे] विस्तार, फैलाव (पड्) ।

वित्थिय देखो वित्थड (स ६१०) ।

वित्थक वि [विष्टित] जो विरोध में खड़ा  
हुआ हो, विरोधी बना हुआ (स ४६७;  
६३४) ।

विद देखो विअ = विद् । वक्र. विदंत (उप  
२८० टी) । संक्र. विदित्ता, विदित्ताणं  
(सुअ १, ६, २८; पि ५८३) ।

विदंड पुं [विदण्ड] कक्षा तक लम्बी लट्टी  
(पव ८१) ।

विदंसग देखो विदंसय (पएह १, १ टी—  
पत्र १५) ।

विदंसण न [विदर्शन] अन्वकार-त्वित्त वस्तु  
का प्रकाशन (पएह १, १—पत्र ८) । देखो  
विदरिसण ।

विदंसय वि [विदंशक] श्येन आदि हिसक  
पक्षी (उत्त १६, ६५; सुख १६, ६५) ।

विदड्ड } वि [विदग्ध] १ परिडत, विच-  
विदड्ड } क्षण (संकि ८) । २ विशेष दग्ध  
(पव १२५) । ३ अजीर्ण का एक भेद  
(राज) । देखो विदड्ड ।

विदग्ध पुंछी [विदर्भ] १ देश-विशेष, 'इमो  
य विदग्धदेशमंडणं कुंडिणं नयरं' (कुप्र ४८; गा  
८६) । २ भगवान् सुपार्ष्वनाथ के गणवर—  
मुख्य शिष्य का नाम (सम १५२) । ३ पुंछी,  
विदर्भ देश की प्राचीन राजधानी, कुण्डिनपुर,  
जो आजकल 'नागपुर' के नाम से प्रसिद्ध है;  
'दूरे विदग्धा' (कुप्र ७०) ।

विदरिसण वि [विदर्शन] जिसके देखने से  
भय उत्पन्न हो वह वस्तु, विरूप आकारवाली  
विभोषिका आदि; 'एस एं तए विदरिसणे  
दिट्ठे' (उवा) । देखो विदंसण ।

विदल न [विदल] बंश, वांस (मुत्त १०,  
१; ठा ४, ४—पत्र २७१) ।

विदल न [द्विदल] १ चना आदि वह शुष्क  
धान्य जिसके दो टुकड़े समान होते हैं,  
'जम्मि हु पीलिज्जंते नेहो न  
हु होइ विति तं विदलं ।  
विदलेवि हु उप्पन्नं नेहजुयं  
होइ नो विदलं' (संबोध ४४) ।

२ वि. जिसके दो टुकड़े किए गए हों वह  
(सुअति ७१) ।

विदलिद (शौ) वि [विदलित] खरिडत,  
बूणित (नाट—वेणी २६) ।

विदाअ देखो विदाय = विदुत्त (से १३, २५) ।

विदारग } वि [विदारक] विदारण-कर्ता;  
विदारय } 'कम्मरयविदारगाई' (पएह २,  
१—पत्र ६६; राज) ।

विदालण न [विदारण] विविध प्रकार से  
चीरना, फाड़ना (पएह १, १—पत्र १४) ।

विदिअ देखो विइअ (अभि १२३; पउम  
३६, ६८) ।

विदिण्ण देखो विइण्ण = वितीणं (विपा १,  
२—पत्र २२) ।

विदिण्ण वि [विदीर्ण] फाड़ा हुआ, चीरा  
हुआ (नाट—मुच्छ २५५) ।

विदिता } देखो विद = विद् ।  
विदित्ताणं }

विदिन्न देखो विदिण्ण = वितीणं (विपा १,  
२ टी—पत्र २२; सुर ५, १८७) ।

विदिस (अप) वी [विदिशा] एक नगरी का  
नाम (भवि) ।

विदिसा } वी [विदिश] १ विदिशा,  
विदिसी° } उपदिशा, कोण (आचा; पि  
४१३; पएण १—२६) । २ विपरीत दिशा,  
असंयम (आचा) ।

विदु देखो विउ (पंचा १६, ७) ।

विदुगुंछा देखो विउच्छा (राज) ।

विदुग्ग न [विदुर्ग] समुदाय (भग १, ८) ।

विदुम वि [विदुस्] विद्वान्, जानकार (सूत्र १, २, ३, १७)।

विदुर वि [विदुर] १ विचक्षण, विन (कुमा)।  
२ धीर। नागर, नागरिक (हे १, १७७)।  
४ पुं. कौरवों के एक प्रख्यात मन्त्री (शाया १, १६—पत्र २०८)।

विदुलतांग न [विद्युलताङ्ग] संख्या-विशेष, हाहाहू को चौरासी नाख से गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह (इक)।

विदुलता श्री [विद्युलता] संख्या-विशेष, विद्युलतांग को चौरासी नाख से गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह (इक)।

विदुस देखो विदुः 'ए पमाणं प्रथि विदुसाणं' (धर्मसं ८८०)।

विदुसाग पुं [विदुसक] मसखरा, राजा के विदुसाय साय रहनेवाला मुसाहब (साधं ६५; सम्मत् ३०)।

विदेस देखो विदेस = विदेश (शाया १, २—पत्र ७६; श्रौषः पत्र १, ६६; विने १६७१; कुमा; प्राप् ४४)।

विदेसि कि [विदेशिन्] परदेशी (सुपा ७२)।  
विदेसिअ वि [वैदेशिक] ऊपर देखो (सिरि ३६४)।

विदेह पुं [विदेह] १ राजा जनक (तो ३)।  
२ पुं. व. देश-विशेष; विहार का उत्तरीय प्रदेश जो आजकल 'तिरहुत' के नाम से प्रसिद्ध है; 'इहेय भारदे बाले पुब्बदेसे विदेहा एणं जणववा' (तो १७; अंत)। ३ पुंन. वयं-विशेष, महाविदेह-क्षेत्र (पत्र १६३)। ४ वि. विशिष्ट शरीरवाला। ५ निलेय, लेप-रहित। ६ पुं. अंग, कामदेव। ७ गृह-वास (कम्प ११०)। ८ नियम पर्वत का एक कूट। ९ नीलवंत पर्वत का एक कूट (ठा ६—पत्र ४५४)। १० जंचू श्री [जंचू] जन्मवृत्त-विशेष, जिसके नाम से यह जन्म-द्वेष कहलाता है (जं ४; इक)। ११ जंच पुं [जाच, वात्य] भगवान् महावीर (कम्प ११०)। १२ दिना श्री [दिना] भगवान् महावीर की माता, राती विशला (कम्प)। १३ दुहिआ श्री [दुहितृ] राजा जनक की पृथी, सीता (तो ३)। १४ पुत्त पुं [पुत्र] राजा कृषिक (भग ७, ८)।

विदेहदिन्न पुं [वेदेहदत्त] भगवान् महावीर (कम्प ११० टो)।

विदेहा श्री [विदेहा] १ भगवान् महावीर की माता, विशला देवी (कम्प ११० टो)।  
२ जानकी, सीता (पत्र ४६, १०)।

विदेहि पुं [वेदेहिन्] विदेह देश का अधिपति, तिरहुत का राजा (सूत्र १, ३, ४, २)।

विदेही श्री [विदेही] राजा जनक की पत्नी, सीता की माता (पत्र २६, २)।

विद्वडिअ वि [दे] नाशित, नष्ट किया हुआ (दे ७, ७०)।

विद्वड्ड पुं [विद्वध] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २७)।

विद्वय सक [वि + द्रावय्] १ विनाश करना। २ हेरान करना, उपद्रव करना। ३ दूर करना, हटाना। ४ करना, टपकना। विद्वयई (कुप्र २८०)। वक्. विद्वययंत (रण ७२)। कवक. 'रज्जं रक्खइ न परेहि विद्वयिजंतं' (कुप्र २७; सुर १३, १७०)।

विद्वय पुं [विद्वय] १ उपद्रव, उपसर्ग; 'परवस्सकचरडचोराडविद्वया दूरयुवगया सञ्जे' (कुप्र २०)। २ विनाश (शाया १, ६—पत्र १५७; धर्मवि २३)।

विद्वयिअ वि [विद्वयित] १ विप्लावित (से ४, ६०)। २ दूर किया हुआ, हटाया हुआ (गा ८८)। ३ विनाशित (भवि; सण)।

विद्वया अक [वि + द्रा] खराब होना। विद्वया (से ४, २६)।

विद्वयाण वि [विद्वयाण] १ म्यान, निस्तेज, फीका; 'विद्वयाणमुहा सधोगिल्ला' (सुर ६, १२४), 'अदीणविद्वयाणमुहकमलो' (यति ४३), 'दारिद्रमविद्वयाणं नज्जइ आयासमित्तयो तुण्णं' (कुप्र १६५)। २ शोकानुर, दिलगीर; 'विद्वयाणो परिणयो' (सं ४७३; उप ६०४; उप ३२० टो)।

विद्वयाय वि [विद्वयु] १ विनष्ट (कुमा)। २ पलायित। ३ द्रव-युक्त, द्रव-प्राप्त (हे १, १०७; पड)।

विद्वयाय अक [विद्वय्य] खुद को विद्वान् मानना। वक्. विद्वयायमाण (आचा)।

विहार देखो विद्वार (वव १)।

विद्वारण (अण) वि [विद्वारण] चोरनेवाला, फाड़नेवाला। श्री. ०पी (भवि)।

विद्वायिय देखो विद्वयिअ (भवि)।

विद्वदुम पुं [विद्वुम] १ प्रवाल, मूंगा (से २६; गउड; जो ३)। २ उत्तम वृक्ष (से २, २६)। ३ भ पुं [भ] नववें बलदेव का पूर्व-जन्म का पुत्र (पत्र २०, १६३)।

विद्वदुय वि [विद्वुत] अनिमूत, पीड़ित; 'अग्गिमयविद्वु (१६)या (शाया १, १—पत्र ६५)।

विद्वदूणा श्री [दे] लज्जा, शरम (दे ७, ६५)।

विदेस पुं [विद्वेष] द्वेष, मत्सर (परह १, २—पत्र २६)।

विदेस वि [विद्वेष्य] द्वेष-योग्य, अप्रिय (परह १, २—पत्र २६)।

विदेसण न [विद्वेषण] एक प्रकार का अभिचार-कर्म, जिससे परस्पर में शत्रुता होती है (स ६७८)।

विदेसि वि [विद्वेषिन्] द्वेष-कर्ता (कुप्र ३६७)।

विदेसिअ देखो विदेसिअ (आ १२)।

विदेसिअ वि [विद्वेषित] द्वेष-युक्त (भवि)।

विद्व सक [व्यथ्] वीथना, छेद करना। विद्वइ (घात्वा १५३; नाट—रत्ना ७)। कवक. विद्विजंतं (वे ८८)। संक. विद्वधूण (सूत्र १, ५, १, ६)।

विद्व वि [विद्व] वीथा हुआ, वेध किया हुआ (से १, १३; भवि)।

विद्व देखो बुद्ध = बुद्ध (उत्त ३२, ३; हे १, १२८; भवि)।

विद्वंस अक [वि + ध्वंस] विनष्ट होना। विद्वंसइ (ठा ३, १—पत्र १२३)। वक्. विद्वंसमाण (सूत्र १, १५, १८)।

विद्वंस सक [वि + ध्वंसय्] विनष्ट करना। भवि. विद्वंसैहिति (भग ७, ६—पत्र ३०५)।

विद्वंस पुं [विध्वंस] १ विनाश (सुर १, १२)। २ वि. विनाश-कर्ता; 'जहा से तिमिरविद्वंसे उत्तिहुते दिवावरें' (उत्त ११, २४)।

विद्धंसण न [विध्वंसन] विनाश (गाथा १, १—पत्र ४८; परह १, ३—पत्र ५५; सूत्र १, २, २, १०; चेदय ६६४; उप पृ १८७)।

विद्धंसणया त्री [विध्वंसना] विनाश (भग)।

विद्धंसित वि [विध्वंसित] विनाशित (चंड ३, ५)।

विद्धंसिय वि [विध्वस्त] विनष्ट (पठम विद्धत्य } ८, २३७; १६, ३०; पत्र १५५)।

विद्धि त्री [वृद्धि] १ वढ़ाव, वढ़ती (उप ७२८ टी; मुर ४, ११५)। २ समृद्धि (ठा १०—पत्र ५२५; विते ३४०८)। ३ अभ्युदय । ४ संपत्ति । ५ अहिंसा (परह २, १—पत्र ६६)। ६ कलान्तर, सुद (विपा १, १—पत्र ११)। ७ व्याकरण-प्रसिद्ध स्वर का विकार (विते ३४८२)। ८ श्लोषवि-विशेष (राज)।

विद्धूण देखो विद्ध = व्यय् ।

विधम्म देखो विहम्म (राज)।

विधम्मिय वि [विधर्मित] विरस्कृत (विते २३४६)।

विधवा देखो विहवा (निचू ८)।

विधा अ [वृथा] मुना, निरर्थक, व्यर्थ (धर्मसं ४११)।

विधाण देखो विहाण = विधान (वृह १)।

विधाय देखो विहाय = विधातु (राज)।

विधार सक [वि + धारय्] निवारण करना । संक्र. विधारेउं (पिड १०२)।

विधि (शौ) देखो विहि (हे ४, २८२; ३०२)।

विधुर वि [विधुर] १ व्याकुल, विह्वल; 'नहि विधुरसहाना हंति दुखेवि घोरा' (कुप्र ५४)। २ विपय, असमान (धर्मसं १२२३; १२२४)। देखो विहुर।

विधुय (शौ) देखो विहुण = वि + धृ। विधुवेदि (पि ५०३)।

विधूण देखो विहुण = वि + धृ। संक्र. विधू-णिन्ता (सूत्र २, ४, १०)।

विधूम पुं [विधूम] अग्नि, वढ़ि (सूत्र १, ५, २, ८; वसु)।

विधूय वि [विधूय] क्षुरण, सम्यक् सृष्ट; 'विधूयकप्ये' (आचा १, ३, ३, ३; १, ६, ३, १)। देखो विहूअ।

विनड देखो विणड। विनडइ (भवि), 'अइ हिअय पसिअ विरमनु दुअहपेण्णे कि नु विनडेसि' (लकिम ५८)। कवक. विनडिजंत, विनडिजमाण (मुगा ६५५; १३४)।

विनडण न [विनटन] १ व्याकुल करना । २ विडम्बना (सुपा २०८)।

विनडिअ वि [विनटित] १ व्याकुल बना हुआ । २ विडम्बित; 'तरहाअुहाविनडिअो फलजलरहियम्मि सेलम्मि' (सम्मत्त १५६; सुपा २६०)।

विनमि पुं [विनमि] भगवान् ऋषभदेव का एक पौत्र (वण १४)।

विनास देखो विणास = वि + नाशय्। विना-सए (महा)।

विनिअभा सक [विनि + ध्ये] देखना । विनिअभाए (दस ५, १, १५)।

विनिवद्ध वि [विनिवद्ध] संबद्ध, बंधा हुआ (महा)।

विनिमय पुं [विनिमय] व्यत्यय, 'इअ सव्व-भासविनिमयपरिहि' (कुमा)।

विनियट्ट देखो विणिवट्ट। वक. विनियट्ट-माण (आचा १, ५, ४, ३)।

विनियट्टण न [विनियत्तन] निवृत्ति, विराम (आचा)।

विनिरय वि [विनिरत] लीन, प्राप्त (कुप्र ६६)।

विनिहन्न सक [विनि + हन्] मार डालना, विनाश करना । विनिहन्निजा (उत्त २, १७)।

विनिहाय देखो विणिवाय (विपा १, २—पत्र ३१)।

विनीय देखो विणीअ (कस)।

विन्नत्त देखो विण्णत्त (काल)।

विन्नत्ति देखो विण्णत्ति (दं ४७; कुमा)।

विन्नप्प देखो विन्नव।

विन्नव देखो विण्णव। विन्नवइ, विन्नवेइ (पठम ३६, ११४; महा), विन्नवेजा (कप्प)। वक. विन्नवेमाण (कप्प)। संक्र. विन्नविउं, विन्नवित्ता (सुपा ३२३; पि ५८२)। क. विन्नप्प, विन्नवणीय, विन्नवियव्वं (पठम

४६, ४६; मोह ८२; सुपा १६२; २१६; ३२१)।

विन्नवण न [विज्ञापन] निवेदन, विज्ञापन (सुपा २६७)।

विन्नवणा त्री [विज्ञापना] १ प्रार्थना, विनती (सूत्र १, ३, ४, १०)। २ महिला, नारी (सूत्र १; २, २, २)। देखो विण्णवणा।

विन्नविय वि [विज्ञापित] निवेदित (महा)।

विन्ना देखो विण्णा = वि + ज्ञा। क. विन्नेय (भग; उप ३३६ टी)।

विन्ना देखो विन्ना। °वड न [°तट] एक नगर का नाम (उप पृ ११२)।

विन्नाउ वि [विज्ञावृ] जाननेवाला (आचा)।

विन्नाण न [विज्ञान] १ सद्बोध, ज्ञान (भग; आचा)। २ कला, शिल्प; 'तं नत्थि किंपि विन्नाणं जेण वरिजइ काया' (वै ७), 'कुसुम-विन्नाणं' (कुमा; प्रासू ४३; ११२)। ३ मेवा, मति, बुद्धि; 'महा मई मणीसा विन्नाणं वो चिई बुद्धी' (पाप्र)।

विन्नाणिय } देखो विण्णाय (उप १५० टी; विन्नाय } मुर २, १३१; पि १०६; पाप्र)।

विन्नायि देखो विन्नविय (सुपा १४४)।

विन्नास पुं [विन्नास] १ रचना, विच्छित्ति; 'विन्नासो विच्छित्ती' (पाप्र), 'वयएविन्नासो' (स ३०१; सुपा १७; २६६; महा)। २ स्थापना (भवि)।

विन्नासण न [विन्नासन] संस्थापन (स ३१८)।

विन्नासिअ वि [विन्नासित] संस्थापित (स ५६०)।

विन्नासिअ (अप) देखो विणासिअ (हे ४, ४१८)।

विन्दु देखो विण्णु (आचा); 'एमा विन्दू' (ठा १—पत्र १६)।

विन्नेय देखो विन्ना = वि + ज्ञा।

विन्दु पुं [विण्णु] एक जैन मुनि, जो आर्य-जेहिल के शिष्य थे (कप्प)। देखो विण्णु।

°पअ न [°पद] आकाश (समु १५०)।

°पदी त्री [°पदी] गंगा नदी (समु १५०)।

विपंची स्त्री [विपञ्ची] वाद्य-विशेष, चीणा (पह १, ४—पत्र ६८; २, ५—पत्र १४६)।

विपक्व वि [विपक्व] पका हुआ (उप ५ २११)। देखो विवक्व।

विपक्व देखो विवक्व; 'निजियविपक्व-लक्खो' (सुपा १०३; २४०)।

विपक्विय वि [विपक्षिक] विरोधी, दुश्मन (संघोष ५६)।

विपञ्चइय न [विप्रत्ययिक] वारहवें जैन श्रंग-ग्रन्थ का सूत्र-विशेष (सम १२८)।

विपञ्चमाण वि [विपच्यमान] १ जो पकाया जाता हो वह (आ २०; सं ८६), 'आमासु अण्णामु विपचमाणामु मंसपेसोमु' (संघोष ४४)। २ दग्ध होता, जलता; 'तत्त्वरहान-लजालाविपचमाणस्स मह निचं' (स्वण ४१)।

विपञ्जय देखो विवञ्जय (राज)।

विपञ्जास देखो विवञ्जास (नाट—मृच्छ २२६)।

विपडिवात्ति देखो विपडिवात्ति (विसे २६१४; सम्मत २२८)।

विपडिसेह सक [विप्रति + सिध्] निषेध करना। कृ. विपडिसेहेयञ्च (भग ५, ७—पत्र २३४)।

विपणोह सक [विप्र + नोदय्] प्रेरणा करना। विपणोहण (आचा १, ५, २, २; पि २४४)।

विपण देखो विवण = विपन्न (चार ८)।

विपत्ति देखो विवत्ति = विपत्ति (गा २८२ अ; राज)।

विपत्याविद (शौ) वि [विप्रस्तावित] आरब्ध, जितका प्रारंभ किया गया हो वह; 'एदाए चोरियाए एसह घरे कलहो विपत्या-विदो' (हास्य १२१)।

विपरामुस सक [विपरा + मृश] १ समा-रम्भ करना, हिंसा करना। २ पीड़ा उपजाना, हैरान करना। ३ अक. उत्पन्न होना; उप-जाना। विपरामुसइ, विपरामुसंति, विपरामुसह (आचा; पि ४७?)। देखो विपपरामुस।

विपराहुत्त वि [विपराड्मुक्ष] विशेष पराड्-मुक्ष, अतिशय उदासीन (पउम ११५, २२)।

विपरिकम्म न [विपरिकर्मन्] शरीर को श्राकुञ्चन-प्रसारण आदि क्रिया (आचा २, ८, १)।

विपरिकुञ्चि वि [विपरिकुञ्चिन्] विपरि-कुञ्चित नामक बन्दन-शोपवाला; 'देसकहा-वित्तंते कहेइ-दरवदिए विपरिकुञ्चो' (बृह ३)।

विपरिकुञ्चिय देखो विपपलिउञ्चिय (राज)।

विपरिखल अक [विपरि + खल्] १ स्खलित होना, गिरना। २ भूल करना। वकृ. विपरिखलंत (अच्छु २२)।

विपरिणम अक [विपरि + णम्] १ बद-लना, रूपान्तर को प्राप्त होना। २ विपरीत होना, उलटा होना। विपरिणमे (पिड ३२७)। वकृ. विपरिणममाण (भग ७, १०—पत्र ३२५)।

विपरिणय वि [विपरिणत] रूपान्तर को प्राप्त (पिड २६५)।

विपरिणाम सक [विपरि + णमय्] १ विपरीत करना, उलटा करना। २ बदलवाना, रूपान्तर को प्राप्त करना। विपरिणामेइ (स ५१३)। हेकृ. विपरिणामित्तए (उवा)।

विपरिणाम पुं [विपरिणाम] १ रूपान्तर-प्राप्ति (आचा; श्रौप)। २ उलटा परिणाम, विपरीत अव्यवसाय (वमंसं ५११)।

विपरिणामिय वि [विपरिणमित] रूपान्तर को प्राप्त (भग ६, १ टी—पत्र २५१)।

विपरिधाव सक [विपरि + धाव्] इधर उधर दौड़ना। विपरिधावई (उत्त २३, ७०)।

विपरियास देखो विपपरियास (राज)।

विपरिवसाव सक [विपरि + वासय्] रखना। विपरिवसावेइ (साया १, १२—पत्र १७५)। वकृ. विपरिवसावेमाण (साया १, १२)।

विपरीअ देखो विवरीअ (सूत्र १, १, ४, ५; गा ५४ अ)।

विपलाअ अक [विपरा + अय्] दूर भागना। वकृ. विपलाअंत (गा २६१)। विपलहत्थ देखो विवलहत्थ (पि २८५)।

विपरिस वि [विदर्शिन्] देखनेवाला (आचा)।

विपाग देखो विवाग (राज)।

विपिक्ख देखो विपेक्ख। वकृ. विपिक्खंत (राज)।

विपिण देखो विविण (कुमा)।

विपित्त वि [दे] विकसित, खिला हुआ (दि ७, ६१)।

विपुल देखो विउल (साया १, १—पत्र ७५; कप्प; पह २, १—पत्र ६६)। 'वाहन पुं [वाहन] भारतवर्ष में होनेवाला वारहवाँ चक्रवर्ती राजा (सम १५४)।

विप्प न [दे] पुच्छ, डुम, पूँछ (दि ७, ५७)।

विप्प पुं [विप्र] ब्राह्मण, द्विज (हे १, १७७; महा)।

विप्प पुं [विप्रु, विप्र] १ मूत्र और विष्ठा के बिन्दु। २ विष्ठा और मूत्र; 'भुतपुरीसाण विप्पुसो विप्पा अन्ने विडित्ति विष्ठा भासंति य पत्ति पासवणं' (विसे ७८१; श्रौप; महा)।

विप्पइट्ट देखो विपपिगिट्ट (राज)।

विप्पइण वि [विप्र-कीर्ण] विखरा हुआ, इधर उधर पटका हुआ (से २, ५; कस)।

विप्पइर सक [विप्र + कृ] इधर उधर पटकना, विखेरना। विप्पइरामि (उवा)। वकृ. विप्प-इरमाण (साया १, ६—पत्र १५७)।

विप्पउंज सक [विप्र + युज्] १ विरुद्ध प्रयोग करना। २ विशेष रूप से जोड़ना; 'अदुवा वायाओ विप्पउंजंति' (आचा १, ८, १, ३)।

विप्पओअ पुं [विप्रयोग] अलहदा, अलग, विप्पओग पुं बुदा, निरह, वियोग (उत्तर १५; स २८१; चंड; पउम ४५, ४६; जो ४३; उत्त १३, ८; महा)।

विप्पकड वि [विप्रकट] विशेष रूप से प्रकट (भग ७, १०—पत्र ३२४)।

विप्पकिर देखो विपपइर। वकृ. विप्पकिरेमाण (साया १, १—पत्र ३६)।

विप्पक्ख देखो विपक्ख (पि १६६)।

विप्पगन्धिभय वि [विप्रगन्धिभय] अत्यन्त घृष्ट (सूत्र १, १, २, ५)।



विप्परिस पुं [विप्रकर्ष] दूरी, आसन्नता का अभाव; 'दिसाइविप्परिसा' (धर्मसं १२१७)।

विप्परगळ सक [नाशय्, विप्र + गालय्] नाश करना। विप्परगळ (हे ४, ३१; पि ५५३)।

विप्परगळिअ वि [नाशित, विप्रगळित] नाशित (कुमा)।

विप्परगिद्ध वि [विप्रकृष्ट] १ दूरवर्ती, दूरी पर स्थित (स २२६)। २ दीर्घ, लम्बा; 'याइ-विप्परगिद्धेहि अदाणेहि' (खाया १, १५)।

विप्परचय सक [विप्र + त्यज्] छोड़ना, त्याग करना। कृ. विप्परचय्यव्व (तंदु ३५)।

विप्परचय पुं [विप्रत्यय] १ संदेह, संशय (उत्त २३, २४)। २ वि. प्रत्यय-रहित, अविश्वसनीय (उव)।

विप्परजड वि [विप्रहीण] परित्यक्त (खाया १, २—पत्र ८४; पंचा १४, ६; पव १२३)।

विप्परजह सक [विप्र + हा] परित्याग करना, छोड़ देना। विप्परजहइ, विप्परजहंति, विप्परजहे (कस; उवा; सूत्र २, १, ३८; उत्त ८; ४)। भवि. विप्परजहिस्सामो (पि ५३०)। वकृ. विप्परजहमाण (ठा २, २—पत्र ५६; पि ५००)। संकृ. विप्परजहिच्चा, विप्परजहाय (उत्त २६, ७३; भग)। कृ. विप्परजहणिज्ज, विप्परजहियव्व (खाया १, १—पत्र ४८; पि ५७१; खाया १, १८—पत्र २४१)।

विप्परजह न [विप्रहाण] परित्याग। 'सेणिया व्ही [श्रेणिका] वारहवें जैन अंग-ग्रन्थ का एक परिकर्म—अंश-विशेष (सम १२६)।

विप्परजहणा } व्ही [विप्रहाणि] प्रकृत  
विप्परजहन्ना } त्याग, परित्याग (उत्त २६, ७३, श्रौप; विसे ३०८६; परण ३६—पत्र ८४७)।

विप्परजहिय वि [विप्रहीण] परित्यक्त (पि ५६५)।

विप्परजोग देखो विप्परओअ (चंड)।

विप्परडिअ सक [विपरि + इ] विपरीत होना, जलता होना। विप्परडिअ (सूत्र १, १२, १०)।

विप्परडिवाय पुं [विप्रतिचात] प्रतिबन्ध, अटकान (खाया १, १६—पत्र २४५)।

विप्परडिपह पुं [विप्रतिपथ] विपरीत मार्ग (उप १०३१ टी)।

विप्परडिवण देखो विप्परडिवन्न (पव ७३ टी)।

विप्परडिवत्ति व्ही [विप्रतिपत्ति] १ विरोध (विसे २४८०)। २ प्रतिज्ञा-भंग (उप ५१६)।

विप्परडिवन्न वि [विप्रतिपन्न] १ जिसने विशेष रूप से स्वीकार किया हो वह; 'मिच्छ-त्तपज्वेहि परिवडडमाणेहि २ मिच्छत्तं विप्परडिवन्ने जाए जाए यावि होत्वा' (खाया १, १३—पत्र १७८)। २ विरोध-प्राप्त, विरोधी बना हुआ (आचा १, ८, १, ३; सूत्र १, ३, १, ११)।

विप्परडिवेअ } सक [विप्रति + वेदय्]  
विप्परडिवेद } १ जानना। २ विचारना।  
विप्परडिवेइ (आचा १, ५, ४, ४), विप्परडि-  
वेदंति (सूत्र २, १, १५)।

विप्परडिसिद्ध वि [विप्रतिपिद्ध] आपस में असंमत (उवर ३)।

विप्परडीव वि [विप्रतीप] प्रतिकूल (माल १७७)।

विप्परणइ वि [विप्रनष्ट] पलायित, नाश-प्राप्त (स ३५३; उवा)।

विप्परणम } सक [विप्र + णम्] १ नमना।  
विप्परणव } २ अक. तत्पर होना। विप्परणवति  
(सूत्र १, १२, १७)। वकृ. विप्परणमंत  
(राज)।

विप्परणरस अक [विप्र + नश] नष्ट होना, विनाश-प्राप्त होना। विप्परणरसइ (कस) भवि. विप्परणरसिहिइ (महानि ४)

विप्परणास पुं [विप्रणाश] विनाश (धर्मवि ५७)।

विप्परतार सक [विप्र + तारय] ठगना। विप्परतारसि (धर्मवि १४७)। कर्म. विप्परतारीअदि (शौ) (नाट—शकु ७५)।

विप्परदीअ } (शौ) देखो विप्परडीव (नाट-  
विप्परदीव } मालती १०६; ११६; मुच्छ ४८)।

विप्परमाय पुं [विप्रमाद] विविध प्रमाद (सूत्र १, १४, १)।

विप्परमुंच सक [विप्र + मुच्] छोड़ना, मुक्त करना। कर्म. विप्परमुच्चइ (उत्त २५, ४१)।

विप्परमुक्क वि [विप्रमुक्त] विमुक्त (श्रौप; सुर २, २३७; सुपा ४४५)।

विप्परपय न [दे] १ खल-भिक्षा। २ दान। ३ वि. वापित। ४ पुं. वैद्य (दे ७, ८६)।

विप्परयार सक [विप्र + तारय] ठगना। विप्परारंति, विप्परारंमि (कुप्र ६; त्रि ८८)। कर्म. विप्परारोगइ (कुप्र ४४)। संकृ. विप्परारिअ (त्रि ८८)।

विप्परयारणा व्ही [विप्रतारणा] वंचना, ठगाई (कुप्र ४४; मोह ६४)।

विप्परयारिअ वि [विप्रतारित] वञ्चित, ठगा हुआ (मोह १०१)।

विप्पररद्ध वि [दे] विशेष पीड़ित; 'करचरण-दंतमुसलप्पहारेहि विप्पररद्धे समाणे तं चव महद्दं पाणीयं पादेउं (पाउं) समयरेति' (खाया १, १—पत्र ६४)। देखो परद्ध।

विप्परामुस देखो विप्परामुस; 'आवंती केयावंती लोणंति विप्परामुसंति अट्टाए अणट्टाए वा एणमु चव विप्परामुसंति' (आचा)।

विप्परिणम देखो विपरिणम। भवि. विप्परिणमिस्सति (भग)।

विप्परिणय देखो विपरिणय (भग ५, ७ टी—पत्र २३६; काल)।

विप्परिणाम देखो विपरिणाम = विपरि + णम्य्। विप्परिणामंति, विप्परिणामंति (आचा)। संकृ. विप्परिणामइत्ता (भग)।

विप्परिणाम देखो विपरिणाम = विपरिणाम (आचा; भग ५, ७ टी—पत्र २३६)।

विप्परिणामिय देखो विपरिणामिय (भग ६, १—पत्र २५०)।

विप्परियास सक [विपरि + आसय्] व्यत्यय करना, उलटा करना। विप्परियासेइ (निच्च ११)। वकृ. विप्परियासंत (निच्च ११)।

विप्परियास पुं [विपर्यास] १ व्यत्यय-विपरीतता (आचा; सूत्र १, ७, ११)। २ परित्रमण (सूत्र १, १२, १३; १, १३-१२)।

विष्परियासणा स्त्री [विष्पर्यासना] व्यत्यय करना (निचु ११)।  
 विष्परुद्ध वि [विष्परुद्ध] तिरस्कृत; 'हयनिह यविष्परुद्धो दूयो' (पञ्च ८, ८५)।  
 विष्पल देखो विष्प = विप्र (प्राक् ३७)।  
 विष्पलंभ सक [विप्र + लभ्] ठगना। विष्पलंभेति (स ५०९)।  
 विष्पलंभ पुं [विप्रलम्भ] १ वञ्चना, ठगनाई (उप २४)। २ शृङ्गार की एक अवस्था—जिसमें उक्त अनुराग होने पर भी प्रिय समागम नहीं होता (सुपा १६४)। ३ विष्पयांस, व्यवय, वैपरीत्य (धर्मसं ३०४)। विरह, वियोग (कप्प)।  
 विष्पलंभअ वि [विप्रलम्भक] प्रतारक, ठगनेवाला (मृच्छ ४७)।  
 विष्पलंभअ वि [विप्रलम्भित] १ प्रतारित। २ विरहित (सुपा २१९)।  
 विष्पलट्ट वि [विप्रलट्ट] वञ्चित, प्रतारित (चार ४५; सं ४१८; ६८०)।  
 विष्पलय पुंन [दे] विविधता, विचित्रता; 'तंददु' सो सर्वं जाणइ संबंधविष्पलय' (वर्मवि १२७)।  
 विष्पलविद् (शौ) न [विप्रलपित] निरर्थक वचन, वक्ताव (स्वप्न ८१)।  
 विष्पलाअ देखो विष्पलाअ। भूका. विष्पला-इत्था (विपा १, २—पत्र २९)। वक्. विष्पलायमाण (साया १, १—पत्र ६५)।  
 विष्पलाअ पुं [विप्रलाप] १ परिवेदन, विष्पलाव } रोना, कन्दन; 'अविप्रोगो विष्पलाओ' (तंदु ८७; रयण ६४)। २ निरर्थक वचन, वक्ताव (उत्त १३, ३३)। ३ विरहा-लाप (पञ्च ४४, ६८)।  
 विष्पलिउंचिअ न [विपरिकुञ्चित] गुरु-वन्दन का एक दोष, संपूर्ण वन्दन न करके बीच में वातचीत करने लग जाना (पत्र २—गाया १५२)।  
 विष्पलुंग वि [विप्रलोपक] लूटनेवाला, लुटेरा (परह १, ३—पत्र ४४)।  
 विष्पलोहण वि [विप्रलोभन] लुभानेवाला (स ७६३)।  
 विष्पव पुं [विष्पव] १ देश का उपद्रव, क्रांति। २ दूसरे राजा के राज्य आदि से भय (हे २, १०६)। ३ शरीर की विसंस्थु-लता, अस्वस्थता (कुमा)।

विष्पवर न [दे] भलातक, भिलावा (दे ७, ६६)।  
 विष्पवस अक [विप्र + वस्] प्रवाप्त में जाना, देशान्तर जाना। संक. विष्पवसिय (आचा २, ५, २, ३)।  
 विष्पवसिय वि [विप्रोपित] देशान्तर में गया हुआ, प्रवास में गया हुआ (साया १, २—पत्र ७६, १, ७—पत्र ११५)।  
 विष्पवास पुं [विप्रवास] प्रवास, देशान्तर-गमन (प्रति १००)।  
 विष्पसन्न वि [विप्रसन्न] १ विशेष प्रसन्न, बुध। २ प्रसन्न-चित्त का मरण (उत्त ५, १८)।  
 विष्पसर अक [विप्र + स] फेलना। भूका. 'वहवे हथी...दिसो दिसं विष्पसरिथा' (पि ५१७)।  
 विष्पसाय सक [विप्र + साद्य] प्रसन्न करना। विष्पसाय (आचा १, ३, ३, १)।  
 विष्पसीअ अक [विप्र + सद्] प्रसन्न होना। विष्पसीएज (उत्त ५, ३०; सुख ५, ३०)।  
 विष्पहय वि [विप्रहत] आहत, जलमी (सुर ६, २२१)।  
 विष्पहाइय वि [विप्रभाजित] विभक्त, बँटा हुआ (शौप)।  
 विष्पहीण } वि [विप्रहीण] रहित, वञ्चित  
 विष्पहूण } (सं ७७; स १६१; पि १२०; ५०३)।  
 विष्पावग वि [दे] हास्य-कर्ता, उपहास करनेवाला (सुख १, १३)।  
 विष्पिअ पुंन [विप्रिय] १ अप्रिय, अनिष्ट (साया १, १८—पत्र २१३; गा २५०; से ४, ३६; हे ४, ४२३)। २ अपराध, गुनाह (पान्न)। आरय वि [कारक] १ अप्रिय-कर्ता। २ अपराध-कर्ता (हे ४, ३४३)।  
 विष्पिअ वि [दे] नाशित (दे ७, ७०)।  
 विष्पीइ स्त्री [विप्रोति] अप्रोति (परह १, ३—पत्र ४२)।  
 विष्पु स्त्री [विष्पु] विन्दु, अवयव, अंश; 'मुत्तपुरीसाण विष्पुसा विष्पा' (शौप; विते ७८१)।  
 विष्पुअ वि [विष्पुत] उपद्रुत, उपद्रव-युक्त (दे ६, ७६)।

विष्पुस पुंन. देखो विष्पु; 'असुइस्त विष्पु-सेणवि' (पिड १६५)।  
 विष्पेकख सक [विप्र + ईक्ष्] निरीक्षण करना, देखना। वक्. विष्पेकखंत (परह १, १—पत्र १८)।  
 विष्पेखिअ वि [विप्रोक्षित] निरीक्षित (परह २, ४—पत्र १३१; भग ६, ३३—पत्र ४६६)।  
 विष्पोसहि स्त्री [विप्रोपधि] आध्यात्मिक-शक्ति-विशेष, जिसके प्रभाव से योगी के विद्या और मूत्र का विन्दु ओपधि का काम करता है (परह २, १—पत्र ६६; शौप; विते ७७६; संति २)।  
 विष्पंइ अक [वि + स्पन्द] इधर-उधर चलना, तड़फना। वक्. विष्पंइमाण (आचा)।  
 विष्पंइअ वि [विस्पन्दित] इधर-उधर भटका हुआ, परिभ्रान्त; 'खज्जंतेण जलयले सकम्म-विष्पंइ(दि)एण जीवेण'। तिरियभवे दुक्खाइं छुहतएहा-ईण भुत्ताइं' (पञ्च ६५, ५२)।  
 विष्परिस पुं [विस्परी] विरुद्ध स्पर्श (प्राप्र)।  
 विष्पाडग वि [विपाटक] चीरनेवाला, विदारक (परह १, ४—पत्र ७२)।  
 विष्पाडिअ वि [दे. विपाटित] नाशित (दे ७, ७०)।  
 विष्पारिय वि [विस्फारित] १ विस्तारित (उप पृ १५२)। २ विकासित (सुपा ८३)।  
 विष्पाल सक [दे] पूछना, पृच्छा करना। विष्पालेइ (वव १)।  
 विष्पाल देखो विष्पाल। संक. विष्पालिय (राज)।  
 विष्पाल पुं [दे] पृच्छा, प्रश्न (वव १ टी)।  
 विष्पालगा स्त्री [दे] ऊपर देखो (वव १ टी)।  
 विष्पालिय देखो विष्पारिय (राज)।  
 विष्पुड वि [विष्पुट] स्पष्ट, व्यक्त (रंभा)।  
 विष्पुअ अक [वि + स्फुर] १ होना। २ विकसन। ३ तड़फना। ४ फरकना, हिलना। विष्पुअइ (संवीध ३४; काल; भवि)।  
 वक्. विष्पुअंत (उत्त १६, ५४; पञ्च ६३, ३)।

विष्करण न [विष्करण] १ विजृम्भण, विकास (श्रावक २४५; सुर २, २३७) । २ स्पन्दन, हिलन (गउड) ।

विष्करिय वि [विष्करित] विजृम्भित (सुपा २०४; चण) ।

विष्कृत् वि [विष्कृत्] विकसित, प्रकृल्ल; 'तह तह नुएहा विष्कृल्लगंडविवरंमुही हसई' (वज्जा ४४) ।

विष्कोडअ पुं [विष्कोटक] फोड़ा (नाट—शकु २०; पि ३११; प्राप्र) ।

विष्कंद देखो विष्कंद । वक्र. विष्कंदमाण (आचा १, ४, ३, ३) ।

विष्काल सक [वि + पाटय] १ विदारण करना । २ उजाड़ना । संक्र. विष्कालिय (आचा २, ३, २, ६) ।

विष्कृत् अक [वि + स्फुट] फटना । वक्र. चिंतति कि विष्कृत् चंडवंडयस्स खो' (सुपा ४५) ।

विष्करण देखो विष्करण (सुपा २५) ।

विश्वक वि [विश्वक] विशेष रूप से बांधनेवाला (पंच २, १) ।

विश्व वि [विश्व] १ विशेष वक्र । २ माहित (सुत्र १, ३, २, ६) ।

विवाहग वि [विवाधक] विरोधी, बाधक (धर्मसं ४६६) ।

विशुद्ध वि [विशुद्ध] जागृत (सिरि ६१५) ।

विशुध (श्री) नीचे देखो (पि ३६१) ।

विशुध पुं [विशुध] १ देव, दिव्य (पाप्र; सुर १, ४५) । २ परिशुद्ध, विद्वान् (सुर १, ४५) । ३ चंद्र पुं [चन्द्र] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य (सुपा ६५२) । ४ पट्ट पुं [प्रसु] इन्द्र (सुर १, १७२) । ५ पुर न [पुर] स्वर्ग (सम्मत् १७५) ।

विशुद्धेसर पुं [विशुद्धेश्वर] इन्द्र (श्रावक ५६) ।

विशोध पुं [विशोध] जागरण (पंच १, ४२) ।

विशोधय देखो विशोधय (कण) ।

विशोधण न [विशोधन] ज्ञान कराना; 'अनुशुणविशोधणकरस्स' (सम १२२) ।

विशोधय वि [विशोधय] १ विकासक; 'अनुशुणविशोधय' (कण ३२ टि) । २ ज्ञान-वनक (चित्ते १७४) ।

विश्वोअ पुं [विश्वोक] विलास, लीला; 'हेला ललियं लीला विश्वोओ विवमो विलासो य' (पाप्र) । देखो विश्वोअ ।

विश्वभंग देखो विश्वभंग (भग; पव २२६, कम्म ४, १४; ४०) ।

विश्वभंगि वि [विश्वभङ्गि] विश्वभंग-ज्ञानवाला (भग) ।

विश्वभंत वि [विश्वभ्रान्त] १ विशेष भ्रान्त, चक्र में पड़ा हुआ (आचा १, ६, ४, ३) ।

२ पुं. प्रथम नरक-भूमि का सातवां नर-केन्द्रक—स्थान-विशेष (द्वेन्द्र ४) ।

विश्वभंस पुं [विश्वभंश] अतिपात, हिंसा, प्राण-वियोजन (राज) ।

विश्वभट्ट वि [विश्वभट्ट] विशेष भट्ट (प्रति ४०) ।

विश्वभम पुं [विश्वभम] १ विलास (पाप्र; गउड ५५; १६७; कुमा) । २ स्त्री की शृंगार के अंग-भूत चेषा-विशेष (गउड; गा ५) । ३ चित्त-भ्रम, पागलपन (राय) । ४ शृंगार-संबन्धी मानसिक अशान्ति (कण्) । ५ विशेष भ्रान्ति (सुपा ३२७; गउड) । ६ संदेह । ७ आश्चर्य । = शोभा (गउड) । ८ भूपणों का स्थान-विपर्यय (कुमा) । १० रावण का एक सुभट (पउम ५६, २६) । ११ मैथुन, अन्नह । १२ काम-विकार (परह १, ४—पत्र ६६) ।

विश्वभल वि [विश्वभल] १ व्याकुल, व्यग्र (सुर ५, ५७; १२, १६८) । २ व्यासक्त, तल्लीन । ३ पुं. विष्णु, नारायण (पइ ४०; हे २, ५८) ।

विश्वभल्लिअ वि [विश्वभल्लित्त] व्याकुल किया हुआ (कुमा) ।

विश्वभयण न [दे] उपवान, ओसीसा (दे ७, ६८) ।

विश्वभाडिय वि [दे] नाशित्त (भवि) ।

विश्वभार देखो वेदभार (पि २६६) ।

विश्वभडि पुं [दे] मत्स्य की एक जाति (विपा १, ८ टी—पत्र ८२) ।

विश्वभेइय वि [दे] सूई से विद्ध (दे ७, ६७) ।

विश्वभंग पुं [विश्वभङ्ग] १ विपरीत अवधिज्ञान, वितय अवधिज्ञान, मित्यात्व-युक्त अवधिज्ञान

(पत्र २२६ टी) । २ ज्ञान-विशेष (सुत्र २, २, २५) । ३ विराधना, खण्डन । ४ मैथुन, अन्नह (परह १, ४—पत्र ६६) । देखो विश्वभंग = विश्वभंग ।

विश्वभंगु पुं [दे] शृण-विशेष; 'एरडे कुरविदे करकरसुठे तहा विश्वभंगु य' (परण १—पत्र ३३) ।

विश्वभंगुर वि [विश्वभङ्गुर] विनखर (सुपा ६०५; प्रासू ६६; पुष्प २२०) ।

विश्वभंज सक [वि + भञ्ज] भांग डालना, तोड़ना । संक्र. विश्वभंजिण (काल) ।

विश्वभंतडी (अप) स्त्री [विश्वभ्रान्ति] विशिष्ट भ्रम (हे ४, ४१४) ।

विश्वभंग वि [विश्वभङ्ग] भांगा हुआ, खण्डित (पउम ११३, २६) ।

विश्वभज सक [वि + भज] १ बांटना, विभाग करना । २ विकल से प्राप्त करना, पक्षतः प्राप्ति करना—विद्यान और निषेध करना । कर्म. विश्वज्जति (तंदु २) । क्वकृ. विश्वज्जमाण (साया १, १—पत्र ६०; जप २६४ टी) । संक्र. विश्वभजिण (धर्मवि १०५) । देखो विश्वभज ।

विश्वभजण न [विश्वभजन] विभाग, भाग-बँटाई (पव ३८) ।

विश्वभज देखो विश्वभज । विश्वभज (कम्म ६, १०) ।

विश्वभजवाद् } पुं [विश्वभज्यवाद्] स्याद्वाद, विश्वभज्याय } अनेकान्तवाद, जैन दर्शन (धर्मसं ६२१; सुत्र १, १४, २२; उवर ६६) ।

विश्वभत्ति वि [विश्वभक्ति] १ विभाग-युक्त, बाँटा हुआ (नाट—शकु ४६; कण्) । २ भिन्न-अलग, जुदा; 'विश्वभत्तं धम्मं भोसिमाणे' (आचा; कण्; महा) । ३ न. विभाग (राज) ।

विश्वभत्ति स्त्री [विश्वभक्ति] १ विभाग, भेद (भग १२, ५—पत्र ५७४; सुत्रानि ६६; उत्तनि ३६); 'लोगस्स पएसेसु अणंतरपरपरा-विश्वभत्तीहि' (पंच २, ३६; ४०; ४१) । २ व्याकरण-प्रसिद्ध प्रथम-विशेष (श्रीधना ४; चैइय २६८; सुत्रानि ६६) ।

विश्वभमण न [दे] उपवान, ओसीसा (दे ७, ६८ टी) ।

विभय देखो विभज । विमए, विभयति (कम्म ६, ३१; आचा; उत्त १३; २३) ।

विभयणा ली [विभजना] विभाग (सम्म १०१) ।

विभर सक [वि + स्मृ] विस्मरण करना, भूल जाना । विभरइ (पि ३१३) ।

विभय देखो विहव (उव; महा) ।

विभयण न [विभवन] चिह्न-करण, खराब करना (राज) ।

विभाइम वि [विभाज्य] विभाग-योग्य (ठा ३, २—पत्र १३४) ।

विभाइम वि [विभागिम] विभाग से बना हुआ (ठा ३, २—पत्र १३४) ।

विभाग पुं [विभाग] अंश, बट (काल; सण) ।

विभागिम देखो विभाइम = विभागिम (उप ५ १४१) ।

विभाय देखो विभाग (रंभा) ।

विभाय न [विभात] प्रकाश, कान्ति, तेज (सण) ।

विभाय पुं [विभाव] परिचय; 'कस्स विस-मदत्ताविभाओ न होइ' (स १६८) ।

विभाव सक [वि + भावय] १ विचार करना, ख्याल करना । २ विवेक से ग्रहण करना । ३ समझना । वहु. विभावंत, विभावंत, विभावेमाण (सुपा ३७७; उप ५६७ टी; कप्प) । कवहु. विभाविज्जंत, विभाविज्जमाण (से ८, ३२; स ७५०) । हेहु. विभावेत्तए (कस) । क. विभावणीय (पुष्प २५४) ।

विभाव देखो विभव; 'तथो महाविभावेणं पूइअण पेसिया गया य' (महा) ।

विभावसु पुं [विभावसु] १ सूर्य, रवि । २ रविवार (पउम १७, १७७) । देखो विहावसु ।

विभाविय वि [विभावित] विचारित (सण) ।

विभास सक [वि + भाप्] १ विशेष रूप से कहना, स्पष्ट कहना । २ व्याख्या करना । ३ विकल्प से विधान करना । विभासइ (पव ७३ टी) । क. विभासियव्व (उत्तनि ३६; १००

पिड १२४) । हेहु. विभासिउं (विसे १०८५) ।

विभासण न [विभापण] व्याख्या, व्याख्यान (विसे १४२८) ।

विभासय वि [विभापक] व्याख्याता, व्याख्या-कर्ता (विसे १४२५) ।

विभासा ली [विभापा] १ विकल्प-विवि, पाक्षिक प्राप्ति, भजना, विवि और निषेध का विधान (पिड १४३; १४४; १४५; २३५; ३०२; उप ४१५ टी; द्र १६) । २ व्याख्या, विवरण, स्पष्टीकरण (विसे १३८५; १४२१; पिड ६३७) । ३ विज्ञान, निवेदन (उप ६८०) । ४ विविध भाषण (पिड ४३८) । ५ विशेषोक्ति (देवेन्द्र ३६७) । ६ परिभाषा, संकेत (कम्म १, २८; २६) । ७ एक महानदी (ठा ५, ३—पत्र ३५१) ।

विभासिय वि [विभासित] प्रकाशित; उद्घोषित (सम्मत्त ६२) ।

विभिण्ण } देखो विहिण्ण = विभिन्न (गउड विभिन्न } ५७०; ११८०; उत्त १६, ५५) ।

विभीसण पुं [विभीपण] १ रावण का एक छोटा भाई (पउम ८, ६२) । २ विदेह वर्ष का एक वामुदेव (राज) ।

विभीसावण वि [विभीपण] भय-जनक, भयंकर (भवि) ।

विभीसिया ली [विभिपिका] भय-प्रदर्शन (उव) ।

विभु पुं [विभु] १ प्रभु, परमेश्वर (पउम ५, ११२) । २ नाथ, स्वामी, मालिक (पउम ७०; १२) । ३ इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम (पउम ५, ७) । ४ वि. व्यापक (विसे १६८५) ।

विभूइ ली [विभूति] १ ऐश्वर्य, वैभव (उव; औप) । २ ठाट्टाट, घूमघाम; 'महाविभूइए चलिओ जिणज्जाए' (सुर ३, ६२; महा) । ३ अहिंसा (पएह २, १—पत्र ६६) ।

विभूसण न [विभूपण] १ अलंकार, गहना । २ शोभा; 'दिब्बालंकारविभूसणाइ' (उव; औप) ।

विभूसा ली [विभूपा] १ सिंगार की सजावट, शरीर पर अलंकार-वस्त्र आदि की सजावट (आचा १, २, १, ३; औप; जीव ३) ।

२ शरीर-शोभा; 'भिहुणाओ उवसंतस्स किं विभूसाइ कारिअ' (दस ६, २, ६५; ६६; ६७; उत्त १६, ६) ।

विभूसिय वि [विभूपित] विभूपा-युक्त, अलंकृत, शोभित (भग; उत्त १६, ६; महा; विपा १, १—पत्र ७) ।

विभेद } पुं [विभेद] १ भेदन, विदारण  
विभेयं } (धम्मसं ८२६); 'जयवारणकुंभ-विभेयसवमे' (गउड; उा ७२८ टी) । २ भेद, प्रकार; 'उद्वाहोतिरियविभेयं तिहुयणं पि' (चेइय ६६४) ।

विभेयग वि [विभेदक] भेदनकर्ता; 'परमम्म-विभेयगो' (धम्मवि ७६) ।

विमइ ली [विमति] छन्द-विशेष (पिना) ।

विमइअ वि [दे] भर्त्सित, तिरस्कृत (दे ७, ७१) ।

विमउल वि [विमुकुल] विकसित, खिला हुआ (साया १, १ टी—पत्र ३; औप) ।

विमंतिय वि [विमन्त्रित] जिसके बारे में मसलहत—युक्त युक्ति की गई हो वह (सुर ११, ६७) ।

विमंसिअ वि [विमृष्ट, विमर्शित] विचारित-पर्यालोचित (सिरि १०४५) ।

विमग देखो विमय (राज) ।

विमग्ग सक [वि + मार्गय] १ विचार करना । २ अन्वेषण करना, खोजना । ३ प्रार्थना करना, मांगना । ४ इच्छा करना, चाहना । विमग्गइ, विमग्गहा (उव; उत्त १२, ३८) । वहु. विमग्गंत, विमग्गमाण (गा ३५१; सुर २, १७; से ४, ३६; महा) ।

विमग्गिअ वि [विमार्गिन] १ याचित-मांगा हुआ (सिरि १२७; सुर ४, १०७) । २ अन्वेषित, खोजित (पात्र) ।

विमउक्क न [विमध्य] अन्तराल (राज) ।

विमण वि [विमनस्] १ विपण, खिन्न, शोक-सन्तप्त (कप्प; सुर ३, १६८; महा) । २ शून्य-चित्त, सुन्न चित्तबाला (विपा १, २—पत्र २७) । ३ निराश, हताश (गा ७६) । ४ जिसका मन अन्यत्र गया हो वह (से ४, ३१; गउड) ।

विमद् सक [वि + मर्द्व] १ संवर्ष करना । २ मर्दन करना । क्वक्, विमद्दि-ज्जमाण (सिरि १०३८) ।

विमद् पुं [विमर्द] १ विनाश; 'आवत्तपुरिव-संतदालिद्विमद्संजणयं' (सुपा ३८; गडड) । २ संवर्ष (स ७२२; कुप्र ४६) ।

विमद्ग न [विमर्दन] ऊपर देखो (भवि) ।

विमन्न सक [वि + मन्] मानना, गिनना । क्वक्, 'सर्वं सुविणं व तं विमन्नंतो' (सुर ४, २४४) ।

विमय पुं [दे] पर्व-वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३३) ।

विमर (अप) नीचे देखो । विमरह (पिग) ।

विमरिस सक [वि + मृश] विचारना । क्व. विमरिसिद्व्य (श्री) (अनि १८४) ।

विमरिस पुं [विमर्श] विकल्प, विचार (राज) ।

विमल वि [विमल] १ मल-रहित, विशुद्ध, निर्मल (कप्प; श्रीप; ते ८, ४६; पउम ५१, २७; कुमा; प्रासू २; १५७; १६१) । २ पुं. इस अवसर्पणी-काल में उत्पन्न तेरहवें जिनदेव (सम ४३; पडि) । ३ भारतवर्ष में होनेवाले बार्दमवें जिन-भगवान् (सम १५४) ।

४ एक प्राचीन जैन आचार्य और कवि जिन्होंने विष्णु की प्रथम शताब्दी में 'पटमचरित्र' नामक जैन रामायण बनाई है (पउम ११८; ११८) । ५ एक महामह, ज्योतिष्क-देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८) । ६ भगवान् अजित-नाथ का पूर्व-जन्मीय नाम (सम १५१) । ७ पुंन.

सहस्रार देवलोक के इन्द्र का एक पारिवानिक विमान (ठा ८—पत्र ४३७) । ८ ब्रह्म-देवलोक में स्थित एक देव-विमान (सम १३; देवेन्द्र १४०) । ९ एक त्रैलोक्य देव-विमान (सम ४१; देवेन्द्र १४१) । १० लगातार छः दिनों का उपवास । ११ लगातार सात दिनों का उपवास (संश्लेष ५८) । १२ पुं. अहिंसा, दया (परह २, १—पत्र ६६) । १३ 'घोस पुं [घोष] एक कुलकर पुरुष (सम १५०) । १४ 'चंद्र पुं [चन्द्र] एक जैन आचार्य (महा) । १५ 'पद्मा श्री [प्रभा] भगवान् शीतलनाथजी की दीक्षा-शिषिका (विचार १२६) । १६ 'वर

पुं [वर] आनत-प्राणत देवलोक के इन्द्र का एक पारिवानिक विमान (ठा १०—पत्र ५१८) । १७ 'वाहण पुं [वाहन] १ भारत-वर्ष के भावी प्रथम जिनदेव, जिनके दूसरे नाम देवसेन तथा महापद्म होंगे (ठा ६—पत्र ४५६) । २ कुलकर पुरुष-विशेष (सम १०४; १५०; १५३; पउम; ३, ५५) । ३ भारतवर्ष का एक भावी चक्रवर्ती राजा (सम १५४) । ४ एक जैन, जो भगवान् अश्विनन्दन के पूर्व जन्म में गुरु थे (पउम २०, १२; १७) । ५ भगवान् संभवनाथ का पूर्व-जन्मीय नाम (सम १५१) । ६ 'सामि पुं [स्वामिन्] सिद्धचक्रजी का अधिष्ठायक देव (सिरि २०४) । ७ 'सुंदरी श्री [सुन्दरी] पट्ट वासुदेव की पटरानी (पउम २०; १८६) ।

विमल्य न [विमर्दन] मणि आदि को शाण पर विसना; वर्षण (दे १, १४८) ।

विमलहर पुं [दे] कलकल, कोलाहल (दे ७, ७२) ।

विमला श्री [विमला] १ ऊर्ध्व दिशा (ठा १०—पत्र ४७८) । २ वरुणेन्द्र के लोकपालों की अग्र-महिषियों के नाम (ठा ४, १—पत्र २०४) । ३ गीतरति और गीतयय नाम के गन्धर्वेन्द्रों की अग्र-महिषियों के नाम (ठा ४, १—पत्र २०४) । ४ चौदहवें जिनदेव की दीक्षा-शिषिका (सम १५१) ।

विमल्लिअ वि [विमर्दित] जिसका मर्दन किया गया हो वह, वृष्ट (से ६, ७) ।

विमल्लिअ वि [दे] १ मत्सर से उक्त । २ शब्द-सहित, शब्दवाला (दे ७, ७२) ।

विमल्लेसर पुं [विमल्लेश्वर] सिद्धचक्रजी का अधिष्ठायक देव (सिरि ७७३) ।

विमल्लोत्तर पुं [विमल्लोत्तर] ऐरवत वर्ष का एक भावी जिनदेव (सम १५४) ।

विमहिद (श्री) वि [विमथित] जिसका मयन किया गया हो वह (नाट—मालवि ४०) ।

विमाड श्री [विमाट्ट] सौतेली मां (सत्त ३५; १७१) ।

विमाण सक [वि + मानय] अपमान करना, तिरस्कार करना । विमाणेज्जह (महा ५६) ।

विमाण पुं [विमान] १ देव का निवास-भवन (सम २; ८; ९; १०; १२; ठा ८; १०; उवा; कप्प; देवेन्द्र २५१; २५३; परह १, ४—पत्र ६८; ति १२) । २ देव-यान, आकाश-यान, आकाश में गति करने में समर्थ रथ (से ६, ७२; कप्प) । ३ अपमान, तिरस्कार । ४ वि. मान-रहित, प्रमाण-शून्य (से ६; ७२) । ५ 'पविभत्ति श्री [प्रविभक्ति] जैन ग्रन्थ-विशेष (सम ६६) । ६ 'भवण न [भवन्] विमानाकार गृह (कप्प) । ७ 'वासि पुं [वासिन्] देवों की एक उत्तम जाति, वैमानिक देव (परह १, ४—पत्र ६८; ति १२) ।

विमाणणा श्री [विमानना] अवगणना, तिरस्कार-चेष्ट (चिइय १३२) ।

विमाणिअ वि [विमानित] अपमानित (पिड ४१३; कप्प; महा) ।

विमिस्स अ [विमृश्य] विचार करके । १ 'गारि वि [कारिन्] विचार-पूर्वक करने-वाला (स १८४; ३२४) ।

विमिस्स वि [विमिश्र] मिश्रित, मिला हुआ, युक्त (पंच २, ७; महा) ।

विमिरसण न [विमिश्रण] मिश्रण, मिलावट (सम्मत्त १७१) ।

विमोसिय वि [विमिश्रित] विमिश्र, मिश्रित (भवि) ।

विमुज्जल देखो विमज्जल (राज) ।

विमुंच सक [वि + मुंच] १ छोड़ना, वचन-मुक्त करना । २ परित्याग करना । विमुंचइ (सण) । कर्म. विमुंचई (आचा २, १, ६, ६) । क्व. विमुंचंत (महा). विमुंच [विमुंच] माण (णया १, ३—पत्र ६५) । ३. विमोत्तव्य (उप २६४ टी), विमोय (ठा २, १—पत्र ४७) ।

विमुकुल देखो विमज्जल (परह १, ४—पत्र ७२) ।

विमुक्क वि [विमुक्त] १ छुड़ा हुआ, छुड़ा, वचन-रहित; 'जवविमुक्केण आसेण' (महा ४६; पात्र; आचानि ३४३) । २ परित्यक्त; 'विमुक्कजीयाण' (महा ७७) । ३ निःसंग, संग-रहित (आचा २, १६, ८) ।

विमुक्ख पुं [विमोक्ष] छुटकारा, मुक्ति (से ११, ५६; आचानि २५८; २५९; अजि ५) ।  
 विमुक्खण देखो विमोक्खण (उत्त १४, ४; कुप्र ३६६) ।  
 विमुच्छिअ वि [विमुच्छित] मूर्च्छा-प्राप्त (से ११, ५६) ।  
 विमुत्त देखो विमुक्क 'मुत्तिविमुत्तेनुवि' (पिंड ५६) ।  
 विमुत्ति स्त्री [विमुक्ति] १ मोक्ष, मुक्ति (आचानि ३४३, कुप्र १६) । २ आचारांग सूत्र का अन्तिम अव्ययन (आचा २, १६, १२) । ३ अहिंसा (परह २, १—पत्र ६६) ।  
 विमुयण न [विमोचन] परित्याग (संवेध १०) ।  
 विमुह वि [विमुख] १ पराङ्मुख, उदासीन (गडड; सुपा २८; भवि) । २ पुं. एक नरक-ल्लान (देवेन्द्र २८) । ३ पुंन. आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र ७७६) ।  
 विमुह अक [वि + मुह] धवराना, व्याकुल होना, बेचैन होना । वक. विमुहिज्जंत (से २, ४६; ११, ४६) ।  
 विमुहिअ वि [विमुग्ध] धवरया हुआ (से ४, ४४; गा ७६२) ।  
 विमुहिअ वि [विमुखित] पराङ्मुख किया हुआ (परह १, ३—पत्र ५३) ।  
 विमूह वि [विमूह] १ धवरया हुआ । २ अस्फुट, अस्पष्ट (गडड) ।  
 विमूरण वि [विभञ्जक] तोड़नेवाला, छेड़न-कर्ता; 'जं मंगलं वाहुवलस्स आसि तेअस्सिणो माणविमूरणस्स' (मंगल १०) ।  
 विमोइय वि [विमोचित] छुड़ाया हुआ (खाया १, २—पत्र ८८; सण) ।  
 विमोक्ख देखो विमुक्ख (से ३, ८) ।  
 विमोक्खण न [विमोक्षण] १ छुटकारा, छुड़ाना, कथन-मोचन (आचा; सूत्र २, ७, १०; पजम १०२, १८८, स ६८; ७४२) । २ वि. छुड़ानेवाला, विमुक्त करनेवाला; 'सव्वदुक्खविमोक्खणं' (सूत्र १, ११, २; २, ७, १०) । स्त्री. 'णी' (उत्त २६, १) ।  
 विमोक्खय वि [विमोक्षक] छुटकारा पानेवाला; 'ते दुक्ख-विमोक्खया' (सूत्र १, १, २, ५) ।

विमोडण न [विमोटन] मोड़ना (दे) ।  
 विमोत्तव्व देखो विमुंच ।  
 विमोय सक [वि + मोचय] छुड़ाना, मुक्त करना । संक्र. विमोइऊण (सण) ।  
 विमोय देखो विमुंच ।  
 विमोयग वि [विमोचक] छोड़नेवाला, दूर करनेवाला; 'न ते दुक्खविमोयगा' (सूत्र १, ६, ३) ।  
 विमोयण न [विमोचन] १ छुटकारा, मुक्ति । २ वि. छुड़ानेवाला; 'दुहसयविमोयणकाई' (परह २, १—पत्र ६६) ।  
 विमोयणा स्त्री [विमोचना] छुटकारा (सूत्र १, १३, २१) ।  
 विमोह सक [वि + मोहय] मुग्ध करना, मोह उपजाना । विमोहेइ (महा) । संक्र. विमोहित्ता, विमोहेत्ता (भग १०, ३—पत्र ४६८) ।  
 विमोह देखो विमोक्ख (आचा) ।  
 विमोह वि [विमोह] १ मोह-रहित (उत्त ५, २६) । २ पुं. विशेष मोह, धवराहट (सम्मत २२६) । ३ आचारांग सूत्र का एक अव्ययन (सम १५; ठा ६ टी—पत्र ४४५) ।  
 विमोहण न [विमोहन] १ मोह उपजाना । (सुर ६, ३८) । २ वि. मोह उपजानेवाला (उप ७२८ टी) ।  
 विमोहिअ वि [विमोहित] मोह-प्राप्त (महा २३; ५२) ।  
 विम्ह न [विशमन्] गृह, घर (राज) ।  
 विम्हइअ वि [विस्मित] आश्चर्य-चकित, चमत्कृत (सुर १, १६०) ।  
 विम्हय अक [वि + स्मि] चमत्कृत होना, विस्मित होना, आश्चर्यान्वित होना । क. विम्हयणिज्ज, विम्हयणीअ (हे १, २४८; अमि २०२) ।  
 विम्हय पुं [विस्मय] आश्चर्य, चमत्कार (हे २, ७४; पड; प्राप्र; उव; गडड; अवि १) ।  
 विम्हर सक [स्मृ] याद करना । विम्हरइ (हे ४, ७४) ।  
 विम्हर सक [वि + स्मृ] विस्मरण करना, याद न आना; भूल जाना । विम्हरइ (हे ४, ७५; प्राक ६३; पड) । वक. विम्हरंत (आ १६) ।

विम्हरण न [विस्मरण] विस्मृति (पव ६; संवेध ४३; सूक्त ८०) ।  
 विम्हराइअ वि [दे] १ मुद्धित, मूर्च्छा-प्राप्त । २ विस्मापित (से ६, ४१) ।  
 विम्हरावण वि [स्मरण] स्मरण करानेवाला, याद दिलानेवाला; 'वावणवीरकहविम्हरावणा' (कुमा) ।  
 विम्हरिअ वि [विस्मृत] भुला हुआ, याद न किया हुआ (कुमा; पाअ) ।  
 विम्हल देखो विट्मल (उप ५३० टी) ।  
 विम्हलिअ देखो विट्मलिअ (अच्छु २२) ।  
 विम्हारिअ वि [विस्मारित] भुलाया हुआ (कुमा; आ २८) ।  
 विम्हारिअ (अप) देखो विम्हरिअ (सण) ।  
 विम्हाव सक [वि + स्मापय] आश्चर्य-चकित करना । विम्हावेइ (महा; निचू ११) । वक. विम्हावेंत (उत्त ३६, २६२) ।  
 विम्हावण न [विस्मापन] आश्चर्य उपजाना, विस्मय-करण (ओप) ।  
 विम्हावणा स्त्री [विस्मापना] ऊपर देखो (निचू ११) ।  
 विम्हावय वि [विस्मापक] विस्मय-जनक (सम्मत १७४) ।  
 विम्हाविअ वि [विस्मापित] आश्चर्यान्वित किया हुआ (धर्मवि १४७) ।  
 विम्हिअ वि [विस्मित] विस्मय-प्राप्त, चमत्कृत (आ २८—पत्र १६०; उव) ।  
 विम्हिय (अप) देखो विम्हय । विम्हियइ (सण) ।  
 विम्हिर वि [विस्मेर] विस्मय पानेवाला, चमत्कृत होनेवाला (आ १२, २७) ।  
 वियच्चा देखो विअ-च्चा ।  
 वियट्ट अक [वि + वृत्] वरतना, होना । हेक. वियट्टित्तए (आचा २, २, २, ३) ।  
 वियइ पुं [व्यर्दे, व्यट्ट] आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र ७७६) ।  
 विर सक [भञ्ज] भांगना, तोड़ना । विरइ (हे ४, १०६) ।  
 विर अक [गुप्] व्याकुल होना । विरइ (हे ४, १५०), विरंति (कुमा) ।  
 विर (अप) देखो वीर (सण) ।

विरह स्त्री [विरति] १ विराम, निवृत्ति । २ सावध—पाप कर्म से निवृत्ति, संयम, त्याग (उव; आचा) । ३ छन्दःशास्त्र-प्रसिद्ध विश्राम-त्याग, यति (चेड्य ५०७) ।

विरह्य वि [विरचित] १ कृत, निर्मित, बनाया हुआ । २ सजाया हुआ (पात्र; औप; कप; पउम ११८, १२१; कुमा; महा; रंभा; कपू) ।

विरह्य देखो विराह्य (कपू) ।

विरह्यव्य देखो विरय = वि + रच्य ।

विरंचि पुं [विरञ्चि] ब्रह्मा, विधाता (कुप्र ४०३; वि ८७; सम्मत १६२) ।

विरञ्च } अक [ वि + रञ् ] १ रिक्त होना,  
विरञ्ज } उदासीन होना । २ रंग-रहित होना ।  
विरञ्चइ (उव; उत २६, २; महा) । वक्र.  
विरञ्जंत, विरञ्चमाण, विरञ्जमाण (से ४,  
१४; भवि; उत २६, २; गा १४६;  
२६६) ।

विरत्त वि [विरक्त] १ उदासीन, विराम-प्राप्त (सम ५७; प्रासू १५५; १६६; महा) । २ विविध रंगवाला (आचा १, २, ३, ५) ।

विरत्ति स्त्री [विरक्ति] वैराग्य, उदासीनता (उप पृ ३२) ।

विरम अक [ वि + रम् ] निवृत्त होना, अट-कना । विरमइ (गा ७०८), विरमेजा (आचा), विरम, विरमसु (गा ३४५; १४६) । प्रयो., हेक. विरमावेउं (गा ३४६) ।

विरम पुं [विरम] विराम, निवृत्ति (गउड; गा ४५६; ६०६; सुर ७, १६३) ।

विरमण देखो वैरमण (राज; प्रामा) ।

विरमाण सक [ प्रति + पाल्य ] पालन करना, रक्षण करना । विरमाणइ (धात्वा १५३) ।

विरमाल सक [ प्रति + ईक्ष ] राह देखना, वाट जोहना, प्रतीक्षा करना । विरमालइ (हे ४, १६३) । संक. विरमालिअ (कुमा) ।

विरमालिअ वि [प्रतीक्षित] जिसकी प्रतीक्षा की गई हो वह (पात्र) ।

विरय सक [ वि + रच्य ] १ करना, बनाना । २ सजाना, सजावट करना । विरएइ, विरअंति, विरअग्रामि; विरयइ (प्राक ७४;

कपू; पि ५६०; सण) । वक्र. विरयमाण (सुर १६, १५) । संक. विरह्यअ (नाट) । हेक. विरह्यउं (सुपा २) । क. विरह्यव्य (पउम ६६, १६) ।

विरय वि [विरत] १ निवृत्त, रका हुआ, विराम-प्राप्त (उवा; गा ५४१; दं ४६) । २ पाप-कार्य से निवृत्त, संयमी, त्यागी (आचा; उव) । ३ न. विरति, विराम । ४ संयम, त्याग (दं ४६; कम्म २, २) । ५ विरय वि [विरत] आंशिक संयम रखनेवाला, जैन उपासक, श्रावक (सम २६) ।

विरय पुं [दे] छोटा जल-प्रवाह, छोटी नदी (दे ७, ३६); 'विरया तणुसरिआओ' (पात्र) ।

विरय पुं [विरजस्] १ महाप्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज्ज २०) । २ एक देव-विमान (देवेन्द्र १४१) ।

विरयण स्त्रीन [विरचन] १ कृति, निर्माण । २ सजावट (नाट—मालती २८; कपू) । स्त्री. ०गा (सुपा ६५, से १५, ७१); 'पडिबट्टए विअ तसर-विरअणा' (कपू) ।

विरया स्त्री [विरजा] १ गो-लोक में स्थित रावा की एक सखी । २ उसके शाप से बनी हुई एक नदी; 'लंविअविआसरिअ' (अच्छु ८६) ।

विरल वि [विरल] १ अल्प, थोड़ा; 'परदुक्के दुक्खिआ विरला' (हे २, ७२; ४, ४१२; उव; प्रासू १८०; गउड) । २ अनिनिड । ३ विच्छिन्न (गउड; उव) ।

विरलि स्त्री [दे] वक्र-विशेष, डोरिया, डोरी-वाला कपड़ा; 'विरलिमाई भूरिभेओ' (पव ८४ टी) ।

विरलिअ वि [विरलित] विरल बना हुआ, विरल किया हुआ (गउड) ।

विरली देखो विराली (राज) ।

विरल सक [तन्] विस्तारना, फैलाना । विरलइ, विरल्लेइ, विरल्लंति (हे ४, १३७; पड; गउड) ।

विरल पुं [तान] विस्तार, फैलाव, (वव ४) ।

विरलण न [तनन] विस्तार, फैलाव; 'अट्ट-मवविअणे समा रमइ' (उव) ।

विरलिअ वि [तत्] विस्तारवाला, विस्तारित (दे ७, ७१; पात्र; कुमा; एाया १, १७—पत्र २३२; ठा ४, ४—पत्र २७६); 'जह उल्ला साडीया आसुं सुकइ विरल्लिया संती' (विसे ३०३२) ।

विरलिअ देखो विरलिअ (राज; भवि) ।

विरलिअ वि [दे] जलाइ, भोजा हुआ (दे ७, ७१) ।

विरस अक [ वि + रस् ] चिल्लाना, क्रन्दन करना । वक्र. विरसंत (सण) ।

विरस वि [विरस] रस-रहित; शुष्क (एाया १, ५—पत्र १११; गउड; हे १, ७; सण) । २ विरल रसवाला (भग ७, ६—पत्र ३०५) । ३ पुं. रामभ्राता भरत के साथ जैन दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पउम ८५, ३) ४ न. तप-विशेष, निर्विकृतिक तप (सवोध ५८) ।

विरस न [दे] वर्ष, साल, वारह मास (दे ७, ६२) ।

विरसमुह पुं [दे] काक, कौआ (दे ७, ४६) ।

विरसिय वि [विरसित] रस-हीन, रस-विरहित (हम्मोर ५१) ।

विरह सक [ वि + रह ] १ परित्याग करना । २ अलग करना । कवक. विरहिजंत (नाट—शकु ८२) । क. विरहियव्य (श्री) (नाट—शकु ११७) ।

विरह पुं [विरह] १ वियोग, विछोह, जुदाई (गउड; हे १, ८४; ११५; प्रासू १५६; कुमा; महा) । २ आन्तर, व्यवधान (भग) । ३ पुं. वृक्ष-विशेष; 'कुल्लंति विरहक्खवा सोऊण पंचमुगारं' (संवेध ४७; था ३५), 'वरा-विओ पचासत्ते विराहो नाम तरु, वाइऊण वीणं कुल्लाविओ तो' (कुप्र १३६), 'कुल्लंति विरहिणो विरहयव्व लहिऊण पंचमं केवि' (कुप्र २४८) । ४ अभाव । ५ विनाश (राज) । ६ हरिवंश में उत्पन्न एक राजा (पउम २२, ६८) ।

विरह वि [विरथ] रस-रहित (पउम १०, ६३) ।

विरह पुंन [दे] १ एकात्, विजन (दे ७, ६१; णाया १, २—पत्र ७६; पुष्प ३४४); सामाए देवीए श्रंतराणि य छिदाणि य विरहाणि य पडिजागरमायोओ २ विहरंति (विपा १, ६—पत्र ८६) । २ कुसुंम से रंगा हुआ कपड़ा (दे ७, ६१) ।  
 विरहात् न [दे] कुमुम्भ से रंगा हुआ वल्ल (दे ७, ६८) ।  
 विरहि वि [विरहिन्] विघोनी, विछुड़ा हुआ (कुमा) ।  
 विरहिअ वि [विरहित] विरह-युक्त (भग; उव; हे ४, ३७७) ।  
 विरा अक [वि + ली] १ नष्ट होना । २ द्रवित होना, पिघलना । ३ अटकना, निवृत्त होना । विराइ (हे ४, ५६) ।  
 विराइ वि [विरागिन्] विरागवाला, विरक्त, उदासीन । औ. ०णी (नाट) ।  
 विराइ वि [विराजिन्] शोभनेवाला, चमकता (से २, २६) ।  
 विराइ वि [विराविन्] शब्द-युक्त, आवाज-वाला (से २, २६) ।  
 विराइअ देखो विराय = विलीन (से २, २६) ।  
 विराइअ वि [विराजित] सुशोभित (उवा; श्रौप; महा) ।  
 विराग पुं [विराग] १ राग का अभाव, वैराग्य, उदासीनता (सुख १३; उप ७२८ टी) । २ वि. राग-रहित, वीतराग (पच्च १०४; श्रौप) ।  
 विराड पुं [विराट] देश-विशेष (उप ६४८ टी) । नयर न [नगर] नगर-विशेष (णाया १, १६—पत्र २०६) ।  
 विराध (अप) पुं [विराध] एक राक्षस का नाम (पिंग) ।  
 विराम पुं [विराम] उपरम, निवृत्ति, श्रवसान (गउड) ।  
 विरामण न [विरमण] विरत करना, निवर्तन, विरमाना; 'विरविरामणपञ्जवसाण' (पएह २, ४—पत्र १३१) ।  
 विराय अक [वि + राज्] शोभना, चमकना । विरायए (पाश्र) । वक. विरायंत, विरायमाण (कप; श्रौप; णाया १, १ टी—पत्र २, सुर २, ७६) ।

विराय वि [विलीन] १ विशोण, विगलित, नष्ट (से ७, ६४; गउड, कुमा ६, ३८) । २ पिघला हुआ (पाश्र) ।  
 विराय देखो विराग (पएह २, ५—पत्र १४६; कुमा; सुपा २०५; वज्जा ६; कुप्र १११) ।  
 विराल देखो विराल (णाया १, १—पत्र ६५; पि २४१) ।  
 विरालिआ औ [विरालिका] १ पलाश-कन्द । २ पर्ववाला कन्द (दस ५, २, १८) । देखो विरालिआ ।  
 विराली औ [विराली] १ वल्ली-विशेष (पव ४, आ २०; संवोध ४४) । २ चतुरिन्द्रिय जंतु की एक जाति (उत्त ३६, १४८; सुख ३६, १४८) । देखो विराली ।  
 विराव पुं [विराव] शब्द, आवाज (गउड) ।  
 विरावि वि [विराविन्] आवाज करनेवाला (गउड) ।  
 विराह सक [वि + राधय्] १ खरडन करना, भांगना, तोड़ना । विराहंति (उव) । वक. विराहंत, विराहंत (सुपा ३२८; उव) ।  
 विराहअ } वि [विराधक] खरडन करनेवाला,  
 विराहग } तोड़नेवाला, भंजक (भग; णाया १, ११—पत्र १७१) ।  
 विराहणा औ [विराधना] खरडन, भंग (सम ८; णाया १, ११ टी—पत्र १७३; पएह १, १—पत्र ६; श्रौघ ७८८) ।  
 विराहिअ वि [विराधित] १ खरिडत, भग्न (भग) । २ अपराध, जिसका अपराध किया गया हो वह; 'अविराहियवेरिएहि' (पएह १, ३—पत्र ५३) । ३ पुं. एक विद्याधर-नरेश (पउम ७६, ७) ।  
 विरिअ वि [भग्न] भांगा हुआ, तोड़ा हुआ (कुमा) ।  
 विरिअ देखो वीरिअ (सुग्रनि ६१; ६४; श्रौप) ।  
 विरिच सक [वि + भज्] विभाग-ग्रहण करना, भाग लेना, बांट लेना; 'समणो वि य से रोगं न विरिचइ, नेय नासेइ' (स १:७) ।  
 विरिच पुं [विरिच्च] ब्रह्मा, विधाता (पाश्र) ।

विरिचि पुं [विरिच्चि] ऊपर देखो (सुर १२, ७८) ।  
 विरिचिअ वि [दे] १ विमल, निर्मल । २ विरक्त, उदासीन (दे ७, ६३) ।  
 विरिचिर पुं [दे] १ अश्व, घोड़ा । २ वि. विरल (दे ७, ६३) ।  
 विरिचिरा औ [दे] धारा, प्रवाह (दे ७, ६३) ।  
 विरिक्क वि [दे] पाटित, विदारित (दे ७, ६४) ।  
 विरिक्क वि [विरिक्त] जो खाली हुआ हो वह (पउम ४५, ३२; सुपा ४२२) ।  
 विरिक्क वि [विभक्त] १ बाँटा हुआ; 'जिएण चित्तयराणं सभा-समभागेहि विरिक्का' (महा) । २ जिसने भाग बाँट लिया हो वह, अपना हिस्सा ले कर जो अलग हुआ हो वह; 'एगम्मि सरिएणवेसे वो भाउया वरिणया, ते य परोप्परं विरिक्का' (श्रौघ ४६४ टी) ।  
 विरिका औ [दे] विन्दु, लव, लेश (सुख २, २७) ।  
 विरिचिर वि [दे] धारा से विरेचन करने वाला (पड्) ।  
 विरिज्जय वि [दे] अनुचर, अनुगत (दे ७, ६६) ।  
 विरिह सक [वि + स्तृ] विस्तारना, पैलाना । विरिहइ (प्राक् ७६) ।  
 विरीअ (अप) देखो विवरीअ (पिंग) ।  
 विरीह सक [प्रति + पालय्] पालन करना, रक्षण करना । विरीहइ (प्राक् ७५; वात्वा १५३) ।  
 विरु } अक [वि + रु] रोना, चिल्लाना ।  
 विरुअ } वक. विरुयमाण (उप ३३६ टी) ।  
 विरुअ न [विरुत] ब्वनि, पक्षी की आवाज, शब्द (गा ६४; से १, २३; नाट—मृच्छ १३६) ।  
 विरुअ वि [दे. विरुप] १ खराब, कुडौल, दुष्ट रूपवाला, कुत्सित (दे ७, ६३; भवि) । २ विरुद्ध, प्रतिकूल (पड्) । देखो विरुअ ।  
 विरुट्ट पुं [विरुट्ट] नरक-स्थान विशेष (वेवेन्द्र २८) ।



विरुद्ध वि [विरुद्ध] विरोधवाला, विपरीत, प्रतिकूल, उलटा (श्रोण; गउड)। °चारि वि [°चारिन्] विपरीत आचरण करनेवाला (उप ७२८ टी)।

विरुद्ध देखो विरुद्ध (दे ६, ७५)।

विरुह अक [ वि + रूह् ] विशेष रूप से उगना, अंकुरित होना। विरुहति (उत्त १२, १३)।

विरुह देखो विरुह (पण १—पत्र ३६; था २०)।

विरुह } वि [विरुह] १ कुरूप, भौंडा,  
विरुह } कुडौल, खराब, कुत्सित (गा २६३;  
भवि; स्वप्न ४४; सुर १, २६; उप ७२८  
टी)। २ विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा (सुर ११,  
८०)। ३ बहुविध, अनेक तरह का, नानाविध  
(आचा)।

विरुह पुं [विरुह] अंकुरित द्विदल-धान्य  
(पव ४)।

विरेश सक [ वि + रेचय् ] १ मल को  
नीचे से निकालना। २ बाहर निकालना।  
विरेशइ (हे ४, २६)। वक्र. विरेअंत  
(कुमा ६, १७)।

विरेशण न [विरेशण] १ मल-निस्तारण,  
जुलाव (उक्कु २५; णाया १, १३—पत्र  
१८१)। २ वि. भेदक, विनाशक; 'सयल-  
दुक्कविरेशणं समणत्तणंति' (स २७८;  
६६३)।

विरेशिअ देखो विरेशिअ = तत (णाया १,  
१७ टी—पत्र २३४; गउड ४३५)।

विरोयण पुं [विरोचन] अग्नि, वृद्धि (भक्त  
१२३)।

विरोल सक [ मन्थ् ] विलोडना, विलोडन  
करना। विरोलइ (हे ४, १२१; पड्)।

विरोल सक [ वि + लम् ] १ अवलम्बन  
करना। २ आरोहण करना, चढ़ना। विरोलइ  
(घात्वा १५३)।

विरोलिअ वि [मथित] विलोडित (पात्र;  
कुमा; भवि)।

विरोह सक [ वि + रोधय् ] विरोधकरना।  
विरोहति (संबोध १७)।

विरोह पुं [विरोध] विरुद्धता, प्रतोपता, वैर,  
दुश्मनाई (गउड; नाट—मालती १३८;  
भवि)।

विरोहय वि [विरोधक] विरोध-कर्ता (भवि)।  
विरोहि वि [विरोधिन्] दुश्मन, प्रतिपन्थी  
पि ४०५; नाट—शकु १६)।

विरोहिय वि [ विरोधित ] विरोध-प्राप्त  
(वज्जा ७०)।

विल अक [ व्रीड् ] लज्जा करना, शरमिन्दा  
होना। संक. विलिऊग (स ३७५)।

विल न [विल] नमक-विशेष, एक तरह का  
नोन (आचा २, १, ६, ६)।

विलइअ वि [दे] १ अविज्य, धनुष की  
डोरी पर चढ़ाया हुआ। २ दोन, गरीब (दे  
७, ६२)। ३ ऊपर चढ़ाया हुआ, आरोपित  
'आणा जत्त विलइआ सीसे सेसव्व हरिहरे-  
हिपि' (वण २५), 'पहुमं चिअ रडुवइणा  
उवरिं हिअए तुलिअो भरोव्व विलइअो'  
(से ३, ५)।

विलओलग पुं [दे] लुंटाक, लुटेरा (राज)।

विलओली स्त्री [दे] १ विस्वर वचन। २  
विलोकना, तलाशी (पणह १, ३—पत्र  
५३)। देखो विलओली°।

विलंघ सक [ वि + लङ्घ् ] उल्लंघन  
करना। विलंघेति (धमंसं ८४२)। वक्र.  
विलंघंत (काल)।

विलंघण न [विलङ्घन] उल्लंघन, अतिक्रमण;  
'ही ही सीलविलंघणं' (उप ५६७ टी)।

विलंघल (अप) देखो विहलंघल (सण)।

विलंघलिअ (अप) वि [ विह् वलाङ्गित ]  
व्याकुल शरीरवाला; 'मुच्छविलंघलिअ' (सण)।

विलंघ देखो विडंघ = वि + डम्बय् । वक्र.  
विलंघमाण (धमंसं १००५)।

विलंघ अक [ वि + लम्ब् ] १ देरी करना।  
२ सक. लटकाना, धारण करना। कर्म.  
विलंबीअदि (शौ) (नाट—विक्र ३१)। वक्र.  
विलंघंत (से ३, २६)। संक. विलंघिअ  
(नाट—वेणी ७६)। कं. विलंघणिज्ज (आ  
१४)।

विलंघ पुं [विलम्ब] १ देरी, अशीघ्रता (गा  
५८८)। २ तप-विशेष, पूर्वाधं तप (संबोध

५८)। ३ न. नक्षत्र-विशेष, सूर्य के द्वारा परि-  
भोग कर छोड़ा हुआ नक्षत्र (विसे ३४०६)।

विलंघण वि [विलम्बक] धारण करनेवाला  
(सुअ १, ७, ८)।

विलंघणा देखो विडंघणा (प्राणू १०३)।

विलंघणा स्त्री [विडम्बना] निर्वर्तना, वनावट,  
कृति (प्राणू १३६)।

विलंघि न [विलम्बिन्] १ सूर्य के द्वारा  
भोकर छोड़ा हुआ नक्षत्र। २ सूर्य जिसपर  
हो उसके पीछे का तीसरा नक्षत्र (वव १)।

विलंघिअ वि [विलम्बित] १ विलम्ब-युक्त  
(कण)। २ न. नक्षत्र-विशेष (धन १)। ३  
नाम्न-विशेष (राय)।

विलम्ब वि [विलम्ब] १ लज्जित, शरमिन्दा  
(से १०, ७०; सुर १२, ६६; नुपा १६८;  
३२८; महा; भवि)। २ प्रतिभा-रूपा, मूढ़  
(से १०, ७०)।

विलम्ब न [विलम्ब] विलज्जता, लज्जा,  
शरम (सुर ३, १७६)।

विलम्बिअ पुं स्त्री ऊपर देखो: 'उवसमियविल-  
म्बिअ—' (भवि)।

विलग्ग सक [ वि + लग् ] १ अवलम्बन  
करना, सहारा लेना। २ चढ़ना, आरोहण  
करना। ३ पकड़ना। ४ चिपटना। गुजराती  
में 'वळगु'। विलगगति, विलगगेजाति (महा)।  
वक्र. विलगगतं (पि ४८८)।

विलग्ग वि [विलग्न] १ लगा हुआ, चिपटा  
हुआ, संलग्न; 'जह लोहसिला अण्पि वोलए  
तह विलगगपुरिसंपि' (संबोध १३; से ४, २;  
३, १४२; गा १८८; ३५६; महा)। २  
अवलम्बित (सुर १०; ११४)। ३ आलस;  
'अन्नया आयरिया सिद्धसेलं तेण समं वंदना  
विलग्गा' (सुख १, ३)।

विलज्ज अक [ वि + लज् ] शरमाना।  
विलज्जामि (कुप्र ५७)।

विलङ्घि पुं स्त्री [वियष्टि] साढ़े तीन हाथ में  
चार अंगुल कम लट्टी, जैन साधुओं का उप-  
करण-दंड (पव ८१)।

विलद्ध वि [विलद्ध] अच्छी तरह प्राप्त,  
सुलब्ध; (पिग)।

विलप पुं [विलात्मन्] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६)।

विलभ सक [खेदय्] खिन्न करना, खेद उपजाना। विलभेइ (प्राक् ६७)।

विलमा स्त्री [दे] ज्या, धनुष की डोरी (दे ७, ३४)।

विलय पुं [दे] सूर्य का अस्त होना (दे ७, ६३; पात्र)।

विलय पुं [विलय] १ विनाश (कुप्र ५१; सुपा १६७; ती ३)। २ तल्लीनता (ती ३)। ३ पुं. एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६)।

विलया स्त्री [वनिता] स्त्री, महिला, नारी (पात्र; हे २, १२८; पड्; कुमा; रंभा; भवि)।

विलय्य अक [वि + लप्] रोना, काँदना, चिल्लाना। विलवइ (पड्; महा)। वक्क. विलयंत, विलयमाण (महा; णाया १, १—पत्र ४७)।

विलयण वि [विलपन्] रोनेवाला, चिल्लानेवाला। ०या स्त्री [ंता] विलाप; क्रन्दन (श्रौप)।

विलविअ न [विलपित] विलाप, क्रन्दन (पात्र; श्रौप)।

विलविर वि [विलपित्] विलाप करनेवाला (कुमा; सण)।

विलस अक [वि + लस्] १ मौज करना। २ चमकना। विलसइ, विलसेसु (महा)। वक्क. विलसंत (कप्प; सुर १, २२८)।

विलसण न [विलसन] १ विलास, मौज (जप ४ १८१)। २ वि. मौज करनेवाला (सुर १, २२१ टि)।

विलसिय न [विलसित] १ चेष्टा-विशेष। २ दीप्ति, चमक (महा)।

विलसिर वि [विलसित्] विलासी, विलास करनेवाला (सुपा २०४; २५४; धर्मवि १६; सण)।

विला देखो विरा; 'मयणं व मणो मृण्णियो वि हंत सिग्धं चिय विलाइ' (भत १२७), 'तावेण च नवणीयं विलाइ सो उद्धरिजंतो' (कुप्र १०५)।

विलाल देखो विराल (पि २४१)।

विलाव पुं [विलाप] क्रन्दन; विलख-विलख या विकल होकर रोना; परिदेवन (ज्व)।

विलाविअ वि [विलापित] विलाप-युक्त (वै ८६; भवि)।

विलास पुं [विलास] १ स्त्री का नेत्र-विकार। २ स्त्री की शृंगार-चेष्टा विशेष, अंग और क्रिया-संबन्धी स्त्री की चेष्टा-विशेष (परह २, ४—पत्र १३२; श्रौप; गउड)। २ दीप्ति, चमक (कुमा; गउड)। ३ चेष्टा-विशेष, मौज (गउड)। ०पुर न [०पुर] नगर-विशेष (सुपा ६२२)। ०वई स्त्री [०वती] स्त्री, नारी, महिला (से १०, ७१; गउड)।

विलासि वि [विलासिन्] १ मौजी, शौकीन (हास्य १३८; गउड)। २ चमकनेवाला। स्त्री. ०णी; 'चंदविलासिणीओ चंददसमललाडाओ' (श्रौप)।

विलासिअ वि [विलासिक, ०सित] विलास-युक्त (गा ४०५)।

विलासिणी स्त्री [विसिनी] १ नारी, स्त्री। २ वेश्या (गा २६३; ८०३; अ; गउड, नाट—रत्ना ६; पि ३४६; ३८७)। देखो विलासि।

विलिअ न [व्यलीक] १ कर्ष-संबन्धी अपराध, वह अपराध जो काम के आवेग के कारण किया जाय, गुनाह (कुमा; गा ५३)। २ अकार्य (गा ५३)। ३ अप्रिय, विप्रिय (गा ५३; पात्र)। ४ अनृत, असत्य। ५ प्रतारणा, ठगई। ६ गति-विपर्यय। ७ वि. अपराधी। ८ अकार्य-कर्ता। ९ विप्रिय-कर्ता। १० झूठ बोलनेवाला (हे १, ४६; १०१)।

विलिअ वि [व्रीडित] लजित, शरमिन्दा (पात्र; पड्)।

विलिअ न [दे. व्रीडित] लजा, शरम (दे ७, ६५; सण)।

विलिअ वि [व्यलीकित] व्यलीक-युक्त; 'विलि (१लिइ)ए विहु' (भग १५—पत्र ६८२; राज)।

विलिअ सक [वि + लिङ्ग] आलिङ्गन करना, स्पर्श करना। विलिअज (आचा २, ६; ३)।

विलिजरा स्त्री [दे] धाना, भुने हुए जौ (दे ७, ६६)।

विलिप सक [वि + लिप्] लेप करना; लेपना; पोतना। विलिपइ (सण)। संक्क. विलिपिऊण (सण)। हेक्क. विलिपित्तए (कस)। प्रयो., वक्क. विलिपावंत (निहु १७)।

विलिज्ज अक [वि + ली] १ नष्ट होना। २ पिघलना। विलिज्जइ; विलिज्जंति, विलिज्ज (हे ४, ५६; ४१८; भवि; अज्ज ५५; संबोध ५२; गच्छ २, २६)। वक्क. विलिज्जांत, विलिज्जमाण (पउम ६, २०, ३; २१; २२)।

विलित देखो विलिअ = व्रीडित (उप २६६)।

विलित्त वि [विलित्त] लिपा हुआ, जिसको विलेपन किया गया हो वह (सुर ३, ६२; १०, १७; भवि)।

विलिच्चिस्ली स्त्री [दे] कोमल और निर्बल शरीरवाली स्त्री, नाजुक बदनवाली नारी (दे ७, ७०)।

विलिह सक [वि + लिख्] १ रेखा करना। २ चित्र बनना। ३ खोदना। विलिहइ (भवि)। वक्क. विलिहमाण (पउम ७, १२०)। कवक्क. विलिहिज्जमाण (कप्प)। हेक्क. विलिहिउं (कप्प)।

विलिह सक [वि + लिह्] १ चाटना। २ चुम्बन करना। विलिहंतु (कप्प)। वक्क. विलिहंत (गच्छ १, १७; भत १४२)।

विलिहण न [विलिखन] रेखा-करण (तंडु ५०)।

विलिहिअ वि [विलिखित] चित्रित (सुर १२, २०)।

विलीअ देखो विलिअ = व्रीडित; 'सोगवि-वसो विलीओ' (कुप्र १३५)।

विलीअ देखो विलिअ = व्यलीक; 'मज्झ विलीयं नरवइस्स परिवसइ किपि चित्ते' (सुपा ३००)।

विलीइर वि [विलोत्] द्रवण-शील, पिघलनेवाला (कुमा)।

विलीण वि [विलीण] १ पिघला हुआ, द्रवीभूत। २ विनष्ट; 'सोवि तुह भाणजलणे मयणो मयणं विअ विलीणो' (धरा २५; पात्र; महा; भवि)। ३ जुगुप्सित (परह १, १—पत्र १४)।

विलुंगयाम वि [दे] निर्गन्थ, अकिचन, साधुः  
'एस विलुंगयामो सिजाए' (आचा २, १,  
२, ४) ।

विलुंगण न [विलुञ्चन] उन्मूलन, जड़ से  
उखाड़ना (परह १, १—पत्र २३) ।

विलुंग सक [वि + लुप] १ लूटना । २  
काटना । ३ विनाश करना । विलुंगंति,  
विलुंगह (आचा; सूत्र २, १, १६; पि  
४७?) ; 'अत्यं चोरा विलुंगंति' (महा) ।  
वक्र. विलुंगमाण (सुपा ५७४) । क्वकृ.  
विलुंगपंत, विलुंगपमाण (पउम १६, ३१;  
सुपा ८०; सुर २, २१; उवा) ।

विलुंग सक [काङ्क्ष] अभिलाष करना,  
चाहना । विलुंगइ (हे ४, १६२) ।

विलुंगइत्तु वि [विलोपत्] विलोप-कर्ता,  
काटनेवाला (सूत्र २, २, ६) ।

विलुंगय पुं [दे] कोट, कौड़ा (दे ७, ६७) ।

विलुंगिअ वि [काङ्क्षत] अभिलषित  
(कुमा ७, ३८; दे ७, ६६) ।

विलुंगिअ पुं [दे. विलुंग] आशित, कवलित,  
खाया हुआ; 'घत्यं कवलितं असिअं विलुंग-  
पिअं वंफिअं लइअं' (पाम) । देखो विलुत्त ।

विलुंगिअत्तु देखो विलुंगइत्तु (आचा) ।

विलुङ्क [दे] छिपा हुआ (भवि) ।

विलुङ्क वि [विलुञ्चित] विमुण्डित, सर्वथा  
केश-रहित किया हुआ (पिंड २१७) ।

विलुत्त वि [विलुत्त] १ काटा हुआ, छिन्न;  
'विलुत्तकसि' (पउम १०२, ५३; परह १,  
३—पत्र ५४) । २ लुण्ठित, लुटा हुआ;  
'इमाइ अडवीइ वाणियमसथो । मह पुरि-  
सेहि विलुत्तो, पत्तं वित्तं तहि पउरं' (सुर  
११, ४८) । ३ विनष्ट; 'सुमं उण जलविलु-  
त्तप्पसाहणं जेव सुमरसि' (कप्प) ।

विलुत्तहिअअ वि [दे] जो समय पर काम  
करने को न जानता हो वह (दे ७, ७३) ।

विलुत्तं } देखो विलुंग ।  
विलुत्तमाण }

विलुत्तअ वि [विलुत्त] उपमदित (से ६,  
१२) ।

विलुत्त वि [विलुत्त] काटा हुआ, छिन्न (सुपा  
६) ।

विलेवण न [विलेपन] १ शरीर पर लगाने  
का चन्दन, कुंकुम, आदि पिट्ट, द्रव्य (कुमा;  
उवा; पाम) । २ लेगन-क्रिया (ग्रौप) ।

विलेविअ वि [विलेपित] विलेपन-युक्त  
(सण) ।

विलेविआ वी [विलेपिका] पान-विशेष  
(राज) ।

विलेहिअ वि [विलेखित] चित्रित किया  
हुआ (सुर १२, ११७) ।

विलोअ सक [वि + लोक्] देखना । कर्म.  
विलोअञ्जति, विलोअञ्जति (पि ११) ।

क्वकृ. विलोअज्जमाग (उप पु ६७) । संकृ.  
विलोअऊण (काप्र १६५) ।

विलोअ पुं [विलोक] आलोक, प्रकाश (उप  
पु ३५८) ।

विलोअ देखो विलोव (सुपा ४४०) ।

विलोअण पुंन [विलोचन] आँसू, नेत्र (काप्र  
१६१; गा ६७०; सुपा ५२६) ।

विलोअण न [विलोकन] १ देखना, निरी-  
क्षण । २ वि. देखनेवाला; 'लोयालोयविलो-  
यणकेवलनाणेण नायभावसं' (सुर ४,  
८६) ।

विलोट्ट अक [विसं + वट्] १ अप्रमाणित  
होना, झूठा साबित होना । २ उलटा होना,  
विपरीत होना । विलोट्टइ, विलोट्टए (हे ४,  
१२६; भवि; स ७१६) ।

विलोट्ट } वि [विसंवदित] १ जो झूठा  
विलोट्टिअ } साबित हुआ हो (कुमा ६,  
८८) । २ जो कहकर फिर गया हो, प्रतिज्ञा-  
च्युत; 'कन्नाए समयमहिलाईलोयवल्थो  
विलिट्टो सो' (उप ५६७ वे) । ३ विरुद्ध  
बना हुआ; 'चउरो महनरवइणो विलोट्टि  
(? ट्टि) या चउदिसि पि अइवलिणो' (सुपा  
४५२) ।

विलोड सक [वि + लोडय्] मंथन करना ।  
विलोडइ (कुप्र ३४७) ।

विलोडिय वि [विलोडित] मथित (कुप्र  
७८) ।

विलोभ सक [वि + लोभय] १ लुब्ध  
करना; लुभाना, आसक्त करना । २ लालच  
देना । ३ विस्मय उपजाना । कृ. विलोभ-  
णिज्ज (कुप्र १३८) ।

विलोल देखो विलोड । कृ. विलोलंत (उप  
पु ८७) ।

विलोल अक [वि + लुट्] लेटना; 'विलो-  
लंति महीतले विमुण्णियंगमंगा' (परह १,  
१—पत्र १८) ।

विलोल वि [विलोल] चंचल, अस्थिर (से  
२, १६; गउड; कप्प) ।

विलोव पुं [विलोप] लूट, डकैती; 'सत्य-  
विलोवे जाए' (सुर १५, १८) ।

विलोवण न [विलोपन] ऊपर देना; 'परय-  
णविलोवणाइणं' (उप) ।

विलोवय वि [विलोपक] लूटनेवाला, लुटेरा;  
'अट्टाणमि विलोवण' (उत्त ७, ५) ।

विलोह देखो विलोभ । कृ. विलोहइत्तु  
(शौ) (मा ४२) ।

विलोहण वि [विलोभन] १ आरवचं-कारक ।  
२ बुभानेवाला; 'मुट्टमइविलोहणं नेय' (आवक  
१३२) ।

विल्ल अक [वेह] चलना, हिलना; 'विल्लंति  
इट्टमपल्लवा' (रंभा) ।

विल्ल देखो विल्ल (हे १, ५५; राज) ।

विल्ल वि [दे] १ अच्छ, स्वच्छ । २ विलसित,  
विलास-युक्त (दे ७, ८८) । ३ पुंन. सुगंधी  
द्रव्य-विशेष, जो घूष के काम में आता है;  
'उज्जंतिविल्लगुंगुलुवविचंभियधूमसंघायं' (स.  
४३६) ।

विल्लय देखो चिल्लअ (ग्रौप) ।

विल्लय देखो वेहण (सुपा २७६) ।

विल्लरी वी [दे] केश, बाल (दे ७, ३२) ।

विल्लल देखो विल्लल (इक) ।

विल्लहल देखो वेहहल (प्रवि २३) ।

विल्ली वी [विल्ली] गुच्छ-वनस्पति-विशेष  
(परण १—पत्र ३२) ।

विल्ल वि [दे] धवल, सफेद (दे ७, ६१) ।

विय देखो इय (हे २, १८२; गा २६०;  
६०६ अ; कुमा) ।

विवइ वी [विपट्] विपत्ति, कष्ट, दुःख  
(उप ७७१; हे ४, ४००) । 'गर वि  
[कर] दुःख-जनक (कुमा) ।

विवइ वी [विवृति] व्याख्या, विवरण,  
टीका (कुप्र १६) । देखो विवदि ।

विवङ्गण वि [विप्रकीर्ण] विखरा हुआ (पउम ७८, २६; से ५, ५२; १३, ८६)।

विवंक् वि [विवक्] विशेष बाँका, टेढ़ा (स २५१)।

विवंचिआ स्त्री [विपञ्चिका] वाद्य-विशेष, बीणा (पात्र)।

विवक्क वि [विपक्क] १ अच्छी तरह पूर्ण किया हुआ। २ प्रकर्ष को प्राप्त, अत्यन्त पका हुआ। ३ उदय में आगत, पलामिमुख; 'विवक्कतवयंभवेराणं देवाणं अन्नं वदमाणे' (ठा ५, २—पत्र ३२?)।

विवक्ख पुं [विपक्ख] १ दुश्मन, रिपु, विरोधी; 'विवक्खदेवीहि' (गउड; स ५६४; अचु ३१)। २ न्याय-शास्त्र-प्रसिद्ध विरुद्ध पक्ष, वह वस्तु जहाँ साध्य आदि का अभाव हो (दसनि १—गाथा १४२)। ३ विपरीत धर्म (अणु)। ४ वैषम्य, विसदृशता (ठा १ टी—पत्र १३)।

विवक्खा स्त्री [विवक्खा] कहने की इच्छा (पंच १, १० भास ३१; दसनि १, ७१)।

विवग्घ वि [विग्घात्र] व्याघ्र के चमड़े से मढ़ा हुआ, व्याघ्र-चर्म-युक्त (आचा २, ५, १, ५)।

विवच्चास पुं [विपर्यास] विपर्यय, विपरीतता, व्यत्यास, उलटा (उत्त ३०, ४; सुख ३०, ४; श्लो २६८)।

विवच्छा स्त्री [विवत्सा] १ एक महानदी (ठा १०—पत्र ४७७)। २ वत्स-रहित स्त्री (राज)।

विवज्ज अक [वि + पद्] मरना, नष्ट होना। विवज्जइ, विवज्जामि (स ११६; पच्च १४; सुख २, ४५)। भवि. विवज्जिही (कुप्र १८६)। वक्क. विवज्जंत (नाट—रत्ना ७७)।

विवज्ज सक [वि + वज्जय] परित्याग करना। विवज्जेइ (उव)। वक्क. विवज्जयंत, विवज्जमाण (उव; वमंसं १०३२)। क्क. विवज्जणिज्ज, विवज्जणीअ (उप ५६७ टी; अमि १८३)।

विवज्ज वि [विवर्ज] १ रहित, वज्जित; 'मउडविवज्जाहरणं सर्वं से देइ भट्टस्स' (सुपा २७?)। २ परित्याग, परिहार (पिठ १२६)।

विवज्जग वि [विवर्जक] वर्जन करनेवाला (सुप्र २, ६, ५)।

विवज्जण न [विवर्जन] परित्याग (रत्न २२)।

विवज्जणया } स्त्री [विवर्जना] परित्याग,  
विवज्जणा } परिहार, वर्जन (सम ४४; उत्त ३२, २; दसच २, ५)।

विवज्जत्थ वि [विपर्यस्त] विपरीत, उलटा (पंचा ११, ३७; कम्म १, ५१)।

विवज्जय पुं [विपर्यय] विपर्यास, व्यत्यास, वैपरीत्य (पात्र; उप १४२ टी; पव १३३; पंचा. ६, ३०; कम्म १, ५५)।

विवज्जास पुं [विपर्यास] १ विपर्यय, व्यत्यय (पात्र; पंचा ८, ११)। २ भ्रम, मिथ्याज्ञान (सुर ६, १५४)।

विवज्जिअ वि [विर्वाजित] रहित, वज्जित, परित्यक्त (उव; दं ३६; सुर ३, १५५; रंभा; भवि)।

विवट्ट अक [वि + वृत्] बरतना, रहना। विवट्टइ (हे ४, ११८)। वक्क. विवट्टमाण (कुमा ६, ८०; रंभा)।

विवडिअ वि [विपत्तित] गिरा हुआ (पउम १६, २२; भाग ७, ६ टी—पत्र ३१८)।

विवड्ड अक [वि + वृध्] बढ़ना। वक्क. विवड्डमाण (णाया १, १० टी—पत्र १७१)।

विवड्डण वि [विवर्धन] बढ़ानेवाला; 'मयविवड्डणं' (उत्त १६, ७)। स्त्री. ँणी (उत्त १६, २)। देखो विवद्धण।

विवड्डिअ स्त्री [विवृद्धि] बढ़ाव, वृद्धि (पंचा १८, १३)।

विवड्डिअ वि [विवृद्ध] बढ़ा हुआ (नाट—पिग)।

विवणि पुंस्त्री [विपणि] १ बाजार (सुपा ५३०)। २ हाट, दूकान; 'विवणी तह आवणो हट्टे' (पात्र)।

विवणीय वि [व्यपनीत] दूर किया हुआ, हटाया हुआ (कप्प)।

विवण्ण देखो विवन्न = विपन्न (उत्त २०, ४४; गा ५५० अ)।

विवण्ण वि [विवर्ण] १ कुल्प, कुडौल (से ५, ४७; दे ६७६)। २ फीका, निस्तेज, म्लान (णाया १, १—पत्र २८; से ८, ८७)।

विवण्ण वि [द्विपर्ण] २ दो पत्रवाला। २ पुं. बुल, पड़ (राज)।

विवत्त पुं [विवर्त्त] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज्ज २०)।

विवत्ति स्त्री [विपत्ति] १ विनाश (णाया १, ६—पत्र १५७; विपा १, २—पत्र ३२; सुपा २३५; उव)। २ मरण, मौत (सुर २, ५१; स ११६)। ३ कार्य की असिद्धि (सुपा २३५; उव; वृह १)। ४ आपदा, कष्ट (सुपा २३५)।

विवत्तिअ वि [विवर्त्तित] फिराया हुआ, घुमाया हुआ (से ६, ८०)।

विवत्थ पुं [विवत्थ] एक महाग्रह (सुज्ज २०)।

विवदि स्त्री [विवृति] १ विवरण, टीका। २ विस्तार (संक्षि ६)।

विवद्धण न [विवर्धन] वृद्धि, बढ़ाव (कप्प)। देखो विवड्डण।

विवद्धणा स्त्री [विवर्धना] वृद्धि, बढ़ाव (उप ६७५)।

विवद्धि पुं [विवर्धि] देव-विशेष (अणु १४५)।

विवन्न देखो विवण्ण = विवर्ण (सुपा ३१६)।

विवन्न वि [विपन्न] १ नाश-प्राप्त, चिन्ट (णाया १, ६—पत्र १५७; स ३४५; सुपा ५०६)। २ मृत, मरा हुआ (पउम ४४, १०; उत्त १०, ४४; स ७५६; सुप्रनि १६२; वमंवि १४४)।

विवय अक [वि + वद्] ऋगड़ा करना, विवाद करना। वक्क. विवयंत (सुपा ५४६; सम्मत्त २१५)।

विवय वि [दे] विस्तीर्ण (पड)।

विवया स्त्री [विपद्] कष्ट, दुःख (उप ७२८ टी)।

विवर सक [वि + वृ] १ बाल सँवारना। २ विस्तारना। ३ व्याख्या करना। विवरइ (भवि), विवरेहि (स ७१७)। वक्क. कित्ते निवत्त विवरन्ती (कुप्र २८५)।

विवर न [विवर] १ छिद्र (पात्रः गडडः प्रासू ७३) । २ कन्दरा, गुहा (से ६, ४६) । ३ एकान्त-विजनः 'कामञ्जयाए गणियाए व्हणिए अंतराणिए य छिद्राणिए य विवराणिए य पडिजागरमाए २ विहरति' (विपा १२—पत्र ३४) । ४ पुंन. आकाश (भग २०, २) ।

विवरमुह वि [विपराङ्मुख] विमुख, पराङ्मुख (पउम ७३, ३०; से ६, ४२) ।

विवरण न [विवरण] १ व्याख्यान, 'सोऊण सुमिणविवरणं' (सुपा ३८) । २ व्याख्या-कारक ग्रंथ, टीका (विसे ३४२२; पव—गाथा ३६; सम्पत्त ११६) । ३ बाल सँवारना (दे १, १५०; पत्र ३८) ।

विवरामुह } देखो विवरमुह (भवि; से ११,  
विवराहुत्त } ८५) ।

विवरिअ वि [विद्युत्] व्याख्यात (विसे १३६६; स ७१७) । देखो विद्युअ ।

विवरिअ (अप) नीचे देखो (सण) ।

विवरीअ वि [विपरीत] उलटा, प्रतिकूल (भग १, १ टी; गडडः कप्पु; जो १२; सुपा ६१०) । °णु वि [°ज्ञ] उलटा, जाननेवाला (धर्मसं १२७४) ।

विवरीर } (अप) ऊपर देखो; 'घई विवरीरो  
विवरेर } बुद्धो होइ विणासहो कालि'  
(हे ४, ४२४), 'माइ कज्जु विवरेरओ दीसइ'  
(भवि) ।

विवरुक्ख } वि [विपरोक्ष] परोक्ष, अ-  
विवरोक्ख } प्रत्यक्ष; 'जावच्चिय दहवयणो  
विवरोक्खो आत्तलोए धूयाए' (पउम ६,  
११) । २ न. ध्रभाव; 'पात्तम्मि अहंकारो  
होहिइ वह वा गुणाए विवक्खले' (गडड  
७६) । ३ परोक्षता, अग्रत्यक्तपनः

'इय ताहे भाजागवचचन्नायंतणरवइयुलाए ।  
विवरोक्खम्मि वि जाया कइए संबोहणालावा'  
(गडड १२०४) ।

विवल अक [वि + वल्] मुड़ना, टेढ़ा  
होना (गडड ४२४) ।

विवला } अक [विपरा + अय] पलायन  
विवलाअ } करना, भाग जाना । विवलाइ,  
विवलायद, विवलायति (गडड ६३४;  
११७६; गि ५६७) । वक्र. विवलाअंत,

विवलाअमाण (से ३, ६०; गा २६१;  
गडड १६६; से १५, १४; गडड ४७२) ।

विवलाअ वि [विपलायित] भागा हुआ  
(से १, २; १४, ३०) ।

विवलिअ वि [विवलित] मोड़ा हुआ,  
परार्त्तित (गा ६८०; गडड ४२४; काप्र  
१६५) ।

विवलीअ देखो विवरीअ; 'विवलीअभासए'  
(अणु) ।

विवल्लत्थ वि [विपर्यस्त] विपरीत, उलटा  
(से ६, ८) ।

विवस वि [विश] १ अधीन, परायत्त,  
परतन्त्र (प्रासू १०७; कुमा; कम्म १, ५७) ।  
२ वाच्य, लाचार (कुप्र १३५) ।

विवह सक [वि + वह] विवाह करना,  
शादी करना (प्राप्ता) ।

विवहण न [विन्यधन] विनाश (णावा  
१, १—पत्र ६५) ।

विवाइअ व [विपादित] व्यापादित, जो  
जान से मार डाला गया हो वह; 'छिद्देण  
विवाइओ वाली' (पउम ३, १०; उत्त १६,  
५६; ६३) ।

विवाउग वि [विवादक] विवाद-कर्ता (स  
४५६) ।

विवाग पुं [विपाक] १ कर्म-परिणाम, सुख-  
दुःखादि भोग रूप कर्म-फल (ठा ४, १—  
पत्र १८८; विपा १, १; उव; सुपा ११०;  
सण; प्रासू १२२) । २ प्रकर्ष; 'व्यविवाग-  
परिणामा' (ठा ४, ४ टी—पत्र २८३) ।  
३ पाककाल; 'जं से पुणो होइ दुहं विवागे'  
(उत्त ३२, ३३) । °विजय पुंन [°विचय]  
धर्मव्यान का एक भेद, कर्म-फल का अनु-  
चिन्तन (ठा ४, ४—पत्र १८८) । °सुय  
न [°श्रुत] ग्यारहवां जैन अङ्ग-ग्रंथ (सम  
१; विपा १, १; औप) ।

विवागि वि [विपाकिन्] विपाकवाला (अञ्क  
११३) ।

विवाद } पुं [विवाद] कगडा; तकरार, वाक्-  
विवाय } कलह, जवानी लड़ाई (उवा; उव;  
स ३८५; सुपा २८२; ३६१) ।

विवाय सक [वि + पादय] मार डालना ।  
विवाएमि (विसे २३८५) । वक्र. विवाएंत,  
विवायंत (पउम ५७, ३१; २७, ३७) ।

विवाय देखो विवाग (सुर १२, १३६; स  
२७५; ३२१; सं ११८; सण) ।

'सन्नं चिय सुहदुक्खं

पुण्वज्जियसुकयदुक्कयविवाया ।

जायइ जियाण जं ता

को लेओ सकयउवभोगे'

(उप ७२८ टी) ।

विवायण वि [विवादन] विवाद-कर्ता; 'ति  
दोवि विवायणु व्व रायकुले' (धर्मवि २०) ।

विवाविड न [दे] अतिशय गौरव (संक्षि  
४७) ।

विवाह-सक [वि + वाहय] लगन करना,  
शादी करना । विवाहेमो (कुप्र १३१) ।

विवाह देखो विआह = विवाह (उवा; स्वप्न  
५१; सम १; ८८) । °गणय पुं [°गणक]  
ज्योतिषी, जोशी (दे ६, १११) । °जन्न  
पुं [°यज्ञ] विवाह-उत्सव (मोह ४४) ।

विवाह देखो विआह = विवाह (सम १;  
८८) ।

विवाह° देखो विआह° = व्याख्या (सम १;  
८८) ।

विवाहाविय वि [विवाहित] जिसकी शादी  
कराई गई हो वह (महा) ।

विवाहिय वि [विवाहित] जिसकी शादी  
हुई हो वह (महा; सण) ।

विविइसा ली [विविदिपा] जानने की इच्छा,  
जिज्ञासा (अञ्क ६६) ।

विविक्क देखो विविक्त (सूत्र १, १, २, १७) ।

विविच सक [वि + विच्] पृथक् करना,  
अलग करना । संक. विविचित्ता (सूत्र २,  
४, १०) ।

विविण न [विपिन] जंगल, वन (गडडः  
नाट—चैत ७२) ।

विविक्त वि [विविक्त] १ रहित, वजित ।  
२ पृथग्भूत (दस ८, ५३; भग ६, ३३;  
उत्त २६, ३१; उव) । ३ विविध, अनेकविध;  
'आसवेहि विविक्तेहि तिण्णमाणो हियासए ।  
गंवेहि विविक्तेहि आउकालस्स पाए'

(आचा १, ८, ८, ६; १०) ।

४ नं. एकान्त, विजनः 'किंतु विविक्तमाइसत ताओ' (स ७४३) ।  
 विविक्त वि [विविक्त] १ विवेक-युक्त । २ संविग्न, भ्रम-भ्रोह (वच ५) ।  
 विविदिअ वि [विविदित] विशेष रूप से ज्ञात (पएह २, १—पत्र ६६) ।  
 विविदिआ देखो विविदिआ (पंचा ३, २७) ।  
 विविद्धि पुं [विवृद्धि] उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का अविष्ठाता देव (ठा २, ३—पत्र ७७) ।  
 विविह वि [विविध] अनेक प्रकार का, बहुविध, भाति भाति का (आचा; राय. उच; महा) ।  
 विवुअ वि [विवृत] १ विस्तृत । २ व्याख्यात (संज्ञि ४) ।  
 विवुअक अक [वि + वृष्] जागना । विवुअकदि (शौ) (प्राप्र) ।  
 विवुडिइ देखो विवुडिइ (शोधभा १३६; स १३५) ।  
 विवुद देखो विवुअ (प्राह ८; १२) ।  
 विवुदि देखो विवदि (प्राह १२) ।  
 विवुह देखो विवुह (सण) ।  
 विवेअ देखो विवेग (कुमा; महा ५२; ७७) ।  
 ०नु वि [०ज्ञ] विवेक-ज्ञाता (पचम ५३, ३८) ।  
 विवेअ पुं [विवेप] विशेष कंष (सुपा १४) ।  
 विवेइ वि [विवेकिन] विवेकवाला (सुपा १४८; कुमा; सण) ।  
 विवेग पुं [विवेक] १ परित्याग (सूत्र १, २, १, ८; ठा २, ३; श्रौप; आचानि ३०३) ।  
 २ ठीक-ठीक वस्तु-स्वरूप का निर्णय, विनिश्चय (श्रौप कुमा) । ३ प्रायश्चित्त (आचा १, ५, ४, ४) । ४ पृथक्करण (श्रौप) ।  
 विवेगि देखो विवेइ (सुपा ५४३; कुप्र ४७) ।  
 विवेच सक [वि + वेचय] विवेचन करना, ठीक-ठीक निर्णय करना, विवेक करना । कर्म, विवेचिजइ (वर्मसं १३१०) ।  
 हेह. विवेचितुं (वर्मसं १३११) ।  
 विवेचण न [विवेचन] विवेक, निर्णय (विसे १६४२) ।  
 विवोल पुं [दे] विशेष कोलाहल, कलकल आवाज; 'विबोलेण सवणमुहय' (स ५७१) ।

विवोलिअ वि [दे] व्यतिक्रान्त, गुजरा हुआ; 'कहकहवि विवोलिया मे रयणी' (स ५०६) ।  
 विवोह देखो विवोह (भवि) ।  
 विव्व सक [वि + अय] व्यय करना, खर्च करना; 'चित्तमणिपभावा संपजइ तत्स दविणमइपउरं । तं विव्वइ जिणमवणे' (सुपा ३८२) । कृ. 'विकवेयञ्चो' (सुपा ४२४; ५८६) । देखो विव्व = वि = अय ।  
 विव्वाय वि [दे] १ अयलोकिता । २ विद्यान्त (दे ७, ८६) ।  
 विव्वोअ देखो विव्वोअ (कुमा) ।  
 विव्वोयण [दे] देखो विव्वोयण (कप्प) ।  
 विस सक [विश] प्रवेश करना । विसइ, विसंति (वच्चा २६; सण; गउड) । वक्क. विसंत (गउड) । संक. विसिऊण (गउड) ।  
 विस सक [वि + श] १ हिंसा करना । २ नष्ट करना । कवक. विसिजमाण, विसीरंत (विसे ३४३७; अञ्चु ७४) ।  
 विस पुंन [विप] १ जहर, गरल, हलाहल; 'कति नट्टो दुहावि विमाहविसो' (सम्मत्त २२६; उवा; गउड; प्रासू १२०; कुमा) ।  
 २ पानी, जल (से ८, ६३) । ०न्दि पुं [०न्दिन्] प्रथम बलदेव का पूर्वजन्म नाम (सम १५३) । ०न्न [०न्न] विप-मित्थित अन्न (उप ६४८ टी) । ०मइअ, ०मय वि [०मय] विप का बना हुआ (हे १, ५०; पइ) । ०व वि [०वत्] १ विपवाला, विप-युक्त । २ पुं. सपं, सांप (से ७, ६७) ।  
 ०दर पुं [०वर] सांप, सपं (से २, २५; सुर १, २४६; महा) । ०दरवइ पुं [०दरपति] शेष नाग (से ६, ७) । ०दरिइ पुं [०दरेन्द्र] शेष नाग (गउड) । ०दारिणीओ [०दारिणी] पनीहारी, पानी भरनेवाली स्त्री (हे ४, ४३६) ।  
 विस देखो विस (गा ६५२; गउड) ।  
 विस पुं [वृष्] १ बैल, सांड, वृषभ (सुर १, २४८; सुपा ३६३; ५६७; सुख ८, १३) ।  
 २ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि (सुपा १०८; विचार १०७) । ३ मूषक, चूहा (दे ७, ६१; पइ) । ४ वर्म । ५ बल-युक्त । ६ अयम नामक श्रौपव । ७ पुरुष-विशेष (सुपा ३६३) ।

८ काम, कन्दपं । ९ शुक-युक्त, वीर्य-युक्त ।  
 १० शृङ्गवाला कोई भी जानवर (सुपा ५६७) ।  
 विसइ वि [विपविन्] विपयवाला, विपय-युक्त (विसे २७६०) ।  
 विसंक वि [विशङ्क] शंका-रहित, निःशंक (उप १३६ टी) ।  
 विसंखल वि [विशङ्खल] स्वच्छन्द, स्वैरो, निरंकुश, उदत (पाय; स १८०; से ५, ६८) ।  
 विसंखल सक [विशङ्खलय] निरंकुश करना, अव्यवस्थित कर डालना । संक. विसंखलेऊण (सुख २, १५) ।  
 विसंघट्टिय वि [विसंघट्टित] वियुक्त, विघटित (कुप्र ६) ।  
 विसंघड अक [विसं + घट] अलग होना, जुदा होना । वक्क. विसंघडंत (गा ११५) ।  
 विसंघडिय वि [विसंघटित] वियुक्त, जो जुदा हुआ हो वह (एणाया १, ८—१४१; महा) ।  
 विसंघाइय वि [विसंघातित] संहत किया हुआ (अणु १७६) ।  
 विसंघाय सक [विसं + घातय] संहत करना । कर्म, विसंघाइजइ (अणु १७६) ।  
 विसंजुत्त वि [विसंयुक्त] वियुक्त, जो अलग हुआ हो (सम्म २२; सूअनि १२१ टी) ।  
 विसंजोअ पुं [विसं + योजय] वियुक्त करना, अलग करना । विसंजोएइ (अण) ।  
 विसंजोअ पुं [विसंयोग] वियोग, विघटन, विसंजोग } प्रयगभाव, जुदाई (कम्म ५, ८२; पंच ३, ५४) ।  
 विसंठुल वि [विसंस्थुल] १ विह्वल, व्याकुल (पाय; से १४, ४१; हे २, ३२; ४, ४३६; मोह २२; वम्मो ५) । २ अव्यवस्थित (गा १४६; कुप्र ४१७; दे १, ३४) ।  
 विसंतव पुं [द्विपन्तप] शत्रु को तपानेवाला, दुश्मन को हैरान करनेवाला (हे १, १७७) ।  
 विसंथुल देखो विसंठुल (पठम ८, २००; स ५२१) ।  
 विसंथुलिय वि [विसंस्थुलित] व्याकुल बना हुआ (सण) ।

विसंधि पुं [विसन्धि] १ एक महाग्रह-  
ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)।  
२ वि. वन्यन-रहित (राज)। °कप्प,  
°कप्पेह्वय पुं [°कल्प] एक महाग्रह (सुज  
२०)।

विसन्धिविद्र न [विसन्धिविष्ट] विविध रथ्या,  
अनेक महत्ता (औप)।

विसंभ देखो वीसंभ (महा)।

विसंभगया देखो विस्संभगया (आचा १,  
८, ६; ४)।

विसंभोइय वि [विसंभोगिक] जिसके साथ  
भोजन आदि का व्यवहार न किया जाय वह,  
मंडली-बाह्य, समाज-बाह्य (ठा ५, १—पत्र  
३००)।

विसंभोग पुं [विसंभोग] साथ बैठकर भोजन  
आदि का व्यवहार (ठा ३, ३)।

विसंभोगिय देखो विसंभोइय (ठा ३, ३—  
पत्र १३६)।

विसंवइय वि [विसंवदित] १ सवृत रहित,  
अप्रमाणित (पात्र; स ५७६)। २ विघटित,  
वियुक्त (से ११, ३६)।

विसंवय अक [विसं + वट्] १ अप्रमाणित  
होना, असत्य बहरना, सवृत से सिद्ध न होना।  
२ विघटित होना, अलग होना। ३ विपरीत  
होना, अन्वया होना। विसंवयइ, विसंवयंति  
(हे ४, १२६; उव); 'सो तारिसो धम्मो  
नियमेण फले विसंवयइ' (स ६४८; ७१६),  
'चरिएण कहं विसंवयसि' (मन २६),  
विसंवएजा (महानि ४)। वक्क. विसंवयंत  
(उव; उप ७६८ टी, धम्मसं ८८३)।

विसंवयण न [विसंवदन्] विसंवाद, सवृत  
का अभाव (उप पृ २६८)।

विसंवाइ वि [विसंवादिन्] १ विघटित होने-  
वाला, विच्छिन्न होनेवाला (कुमा ६, ८६)।  
२ अप्रमाणित होनेवाला, सवृत से सिद्ध नहीं  
होनेवाला; असत्य बहरनेवाला (कुप्र २६४;  
सन्मत १२३)।

विसंवाइअ वि [विसंवादित] विसंवाद-युक्त  
(दे १, ११४; से ३, ३०)।

विसंवाइ देखो विसंवाय = विसंवाद (धम्मसं  
१४८)।

विसंवाइण देखो विसंवायण (उत्त २६,  
४८)।

विसंवाइणा देखो विसंवायणा (ठा ४, १—  
पत्र १६६)।

विसंवाय वि [दे] मलिन, मैला (दे ७,  
७२)।

विसंवाय पुं [विसंवाद] १ सवृत का अभाव,  
विरुद्ध सवृत, विपरीत प्रमाण; 'अरणोएण-  
विसंवाओ' (संबोध १७; सुपा ६०८)। २  
व्याघात (गा ६१६)। ३ विचलता (से ३,  
३०)।

विसंवायण वि [विसंवाइक] १ सवृत रहित,  
प्रमाण-रहित। २ ठगनेवाला, वंचक (सुपा  
६०८)।

विसंवायण न [विसंवादन] नीचे देखो (उत्त  
२६, ४८; सुख २६, ४८)।

विसंवायणा ओ [विसंवादना] १ असत्य  
कथन। २ वंचना, ठगई (ठा ४, १—पत्र  
२६६)।

विसंसरिय वि [विसंसृत] उठ गया हुआ;  
'पहायसमए य विसंसरिएणुं थारएणुं' (स  
५२७)।

विसंहणा देखो विस्संभगया (आचा)।

विसकळ वि [विशकळ] नीचे देखो (राज)।

विसकळिय वि [विशकळित] टुकड़ा-टुकड़ा  
किया हुआ, खरिडत (आवम)।

विसग्ग पुं [विसर्ग] १ निसर्ग, त्याग; 'सिभि-  
रोवि सुरयसंगमकिरियासंजणियवज्जणविसग्गो'  
(वित्ते २२८)। २ विसर्जन, छुटकारा, छोड़  
देना (वि २१५)। ३ अक्षर-विशेष, विसर्ज-  
नीय वर्ण (पिण)।

विसज्ज सक [वि + सज्ज, सर्जय्] १  
विदा करना, भेजना। २ त्यागना। विसज्जेह  
(महा)। संक. विसज्जिऊण, विसज्जिअ  
(महा; अमि ४६)। हेक्क. विसज्जिहुं (शौ)  
(अमि ६०)। क. विसज्जिदव्व (शौ)  
(अमि ५०)।

विसज्जणा ओ [विसर्जना] विदाई (वव  
४)।

विसज्जिअ वि [विसृष्ट, विसर्जित] १ विदा  
किया हुआ, भेजा हुआ (औप; अमि ११६;

महा; सुपा १५०; ३५७)। २ त्यक्त; 'जीविएण  
जाणिए उ विसज्जिवाणिए जाईसएणु देहाणिए'  
(उव)।

विसट्ट अक [ वल् ] फटना, टूटना, टुकड़े-  
टुकड़े होना। विसट्टइ (हे ४, १७६; पड्)  
विसट्टंति (गउड); 'तस्स विसट्टइ हिययं'  
(कुमा)। वक्क. विसट्टंत (स ५७६)।

विसट्ट अक [ वि + कस ] विकसना,  
खिलना, फूलना। विसट्टइ (प्राक्क ७६),  
विसट्टंति (वजा १३८)। वक्क. विसट्टंत,  
विसट्टमाण (वजा ६०; ठा ४, ४—पत्र  
२६४)।

विसट्ट सक [ वि + कासय् ] विकसित  
करना, फूलाना, प्रफुल्ल करना। विसट्टइ  
(घात्वा १५३)।

विसट्ट अक [ पत् ] गिरना, स्थलित होना।  
विसट्टंति (सुख २, २६)।

विसट्ट वि [दे] १ विघटित, विश्लिष्ट (पात्र;  
गउड १००६)। २ विकसित, प्रफुल्ल, खिला  
हुआ (प्राक्क ७७; गउड ६६७; ८०५; कुमा;  
सुर ३, ४२; भत्त ३०)। ३ इलित, विशीर्ण,  
खरिडत, जिसका टुकड़ा-टुकड़ा हुआ हो वह  
(से ६, ३०; गउड ५५६; नवि)। ४ उल्लित  
(गउड ७)।

विसट्टण न [विकसन] विकास, प्रफुल्लता;  
'देव ! परायजणकल्लाणकट्टइ विसट्टणुगंतमि-  
हराणुगारिणो' (वर्मा ५)।

विसड } देखो विसम (पड्; हे १, २४१;  
विसड } कुमा; दे ७, ६२); 'ढंटेण तहा  
विसडा, विसडा जह सफलिया जाया' (उव)।

विसड वि [दे] १ नीराग, राग-रहित। २  
नीरोग, रोग-रहित (दे ७, ६२)। ३ विषोड,  
सहन किया हुआ (उव)। ४ विशीर्ण, टुकड़े-  
टुकड़े किया हुआ (से ६, ६६)। ५ आकुल,  
व्याकुल (से ११, ८६)।

विसड वि [विशठ] १ अत्यंत दंभी, अतिशय  
मायावी; 'देवेहि पाडिहेरं कि व कयं एत्थ  
विसडोहि' (पउम १०२, ५२)। २ पुं. एक  
श्रेष्ठ-पुत्र (सुपा ५५०)।

विसण देखो वसण = वृषण (दे ६, ६२)।

विसण न [वेशन] प्रवेश (राज)।

विसण्ण वि [विसंज्ञ] संज्ञा-रहित, चैतन्य-वर्जित (से ६, ६८) ।

विसण्ण देखो विसन्न = विषण्ण (महा; वसु; राज) ।

विसत्त वि [विसत्त्व] सत्त्व-रहित (वव ६) ।

विसत्थ देखो वीसत्थ (णाय्या १, १—पत्र १३; स्वप्न १६; उप ७२८ टी) ।

विसद देखो विसय = विशद (पण्ह १, ४—पत्र ७२; कप्प; त्रि ६७) ।

विसद् पुं [विशब्द] १ विशिष्ट शब्द । २ त्रि. विशिष्ट शब्दवाला (गउड) ।

विसन्न वि [विपण्ण] १ विन्न, शोक-ग्रस्त, विपादयुक्त (पण्ह १, ३—पत्र ५५; सुर ६, १८०; श्रु १२) । २ आसक्त, तल्लीन (सूअ १, १२, १४) । ३ निमग्न; 'अंतरा चैव सेवसि विसन्ने' (णाय्या १, १—पत्र ६३) । ४ पुं. असंयम (सूअ १, ४, १, २६) ।

विसन्न देखो विस-न्न ।

विसन्ना स्त्री [विसंज्ञा] विद्या-विशेष (पउम ७, १३६) ।

विसप्प अक [वि + सृप्] फैलना, विस्तरना, व्याप्त होना । वक्र. विसप्पंत, विसप्पमाण (कप्प; भग; औप; तंडु ५३) ।

विसप्प पुं [विसर्प] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २७) ।

विसप्पि वि [विसर्पिन्] फैलनेवाला (सुपा ४४७) ।

विसप्पिपर वि [विसर्पित्] ऊपर देखो (सण) ।

विसम देखो वीसम = वि + श्रम् । विसमदु (रंभा ३१) ।

विसम वि [विषम] १ ऊँचा-नीचा, उन्नता-वनत (कुमा; गउड) । २ असम, असमान, अनुल्य (भग; गउड) । ३ अयुग्म, एकी संख्या, जैसे—एक, तीन, पाँच, सात आदि । ४ दाहण, कठिन, कठोर । ५ संकट, संकरा, कम चौड़ा, संकीर्ण (हे १, २४१; पड्) । ६ पुंन. आकाश (भग २०, २) । ७ क्वर वि [अक्षर] अपसिद्धान्तवाला, असत्य निर्णय-वाला (से ४, २४) । ८ लोअणपुं [लोचन] महादेव, शिव (वेणी ११७) । ९ वाण पुं [वाण] कामदेव (सण) । १० सर पुं [शर] बही (स १; सुपा १६३; सण) ।

विसम वि [विषम] १ ऊँचा-नीचा, उन्नता-वनत (कुमा; गउड) । २ असम, असमान, अनुल्य (भग; गउड) । ३ अयुग्म, एकी संख्या, जैसे—एक, तीन, पाँच, सात आदि । ४ दाहण, कठिन, कठोर । ५ संकट, संकरा, कम चौड़ा, संकीर्ण (हे १, २४१; पड्) । ६ पुंन. आकाश (भग २०, २) । ७ क्वर वि [अक्षर] अपसिद्धान्तवाला, असत्य निर्णय-वाला (से ४, २४) । ८ लोअणपुं [लोचन] महादेव, शिव (वेणी ११७) । ९ वाण पुं [वाण] कामदेव (सण) । १० सर पुं [शर] बही (स १; सुपा १६३; सण) ।

विसम वि [विषम] १ ऊँचा-नीचा, उन्नता-वनत (कुमा; गउड) । २ असम, असमान, अनुल्य (भग; गउड) । ३ अयुग्म, एकी संख्या, जैसे—एक, तीन, पाँच, सात आदि । ४ दाहण, कठिन, कठोर । ५ संकट, संकरा, कम चौड़ा, संकीर्ण (हे १, २४१; पड्) । ६ पुंन. आकाश (भग २०, २) । ७ क्वर वि [अक्षर] अपसिद्धान्तवाला, असत्य निर्णय-वाला (से ४, २४) । ८ लोअणपुं [लोचन] महादेव, शिव (वेणी ११७) । ९ वाण पुं [वाण] कामदेव (सण) । १० सर पुं [शर] बही (स १; सुपा १६३; सण) ।

विसम वि [विषम] १ ऊँचा-नीचा, उन्नता-वनत (कुमा; गउड) । २ असम, असमान, अनुल्य (भग; गउड) । ३ अयुग्म, एकी संख्या, जैसे—एक, तीन, पाँच, सात आदि । ४ दाहण, कठिन, कठोर । ५ संकट, संकरा, कम चौड़ा, संकीर्ण (हे १, २४१; पड्) । ६ पुंन. आकाश (भग २०, २) । ७ क्वर वि [अक्षर] अपसिद्धान्तवाला, असत्य निर्णय-वाला (से ४, २४) । ८ लोअणपुं [लोचन] महादेव, शिव (वेणी ११७) । ९ वाण पुं [वाण] कामदेव (सण) । १० सर पुं [शर] बही (स १; सुपा १६३; सण) ।

विसम वि [विषम] १ ऊँचा-नीचा, उन्नता-वनत (कुमा; गउड) । २ असम, असमान, अनुल्य (भग; गउड) । ३ अयुग्म, एकी संख्या, जैसे—एक, तीन, पाँच, सात आदि । ४ दाहण, कठिन, कठोर । ५ संकट, संकरा, कम चौड़ा, संकीर्ण (हे १, २४१; पड्) । ६ पुंन. आकाश (भग २०, २) । ७ क्वर वि [अक्षर] अपसिद्धान्तवाला, असत्य निर्णय-वाला (से ४, २४) । ८ लोअणपुं [लोचन] महादेव, शिव (वेणी ११७) । ९ वाण पुं [वाण] कामदेव (सण) । १० सर पुं [शर] बही (स १; सुपा १६३; सण) ।

विसमय न [दि] भलातक, भिलावाँ (दे ७, ६६) ।

विसमय देखो विस-मय ।

विसमिअ वि [विपमित] १ नीचे-नीचे में विच्छेदित (से ६, ८७) । २ विपम बना हुआ (गउड) ।

विसमिअ वि [विस्मृत] भुला हुआ, अस्मृत (से ६, ८७) ।

विसमिअ [विश्रमित] विश्रान्त किया हुआ, विश्राम-प्राप्त (से ६, ८७) ।

विसमिअ वि [दि] १ विमल, निर्मल । २ उचित (दे ७, ६२) ।

विसमिर वि [विश्रमित्] विश्राम करनेवाला । स्त्री. ०री (गा ५२; प्राक ३०) ।

विसम्म अक [वि + श्रम्] विश्राम करना, आराम करना । भवि. विसम्मिहिड (गा ५७५) । कृ. विसम्मिअव्व (से ६, २) ।

विसय वि [विशद] १ निर्मल, स्वच्छ (कुप्र ४१५; सट्ठ ७८ टी) । २ व्यक्त, स्पष्ट (पाअ) । ३ धवल, सफेद (औप) ।

विसय पुंन [विशय] १ गृह, घर (उत्त ७, १) । २ संभव, संभावना (आइ १) ।

विसय पुं [विषय] १ गोचर, इन्द्रिय आदि से जाना जाता पदार्थ—शब्द, रूप, रस आदि वस्तु (पाअ; कुमा; महा) । २ जनपद, देश (औषभा ८; कुमा; पउम २७, ११; सुपा ३१, महा) । ३ काम-भोग, विलास; 'भोग-पुरितो समन्नियविसयसुहो' (ठा ३, १ टी—पत्र ११४; कम्म १, ५७; सुपा ३१; महा) । ४ वाचत, प्रकरण, प्रस्ताव; 'जोइसविसए' (उप ६८६ टी; औषभा ६) । ५ विहइ पुं [विपति] देश का मालिक, राजा (सुपा ४६४) ।

विसर सक [वि + सृज्] १ त्याग करना । २ विदा करना, भेजना । विसरइ (पड्) ।

विसर अक [वि + सृ] सरकना, घसना, नीचे गिरना, खिसकना । वक्र. विसरंत (णाय्या १, ६—पत्र १५७; से १४, ५४) ।

विसर सक वि + स्मृ] भूल जाना, याद न आना । विसरइ (प्राक ६३) ।

विसर पुं [दि] सैन्य, सेना, लश्कर (दे ७, ६२) ।

विसर पुं [विसर] समूह, दूथ, संघात (सुपा ३; सुर १, १८५; १०; १४) ।

विसरण न [विशरण] विनाश (राज) ।

विसरय पुंन [दि] वाद्य-विशेष (महा) ।

विसरा स्त्री [विसरा] मच्छी पकड़ने का जाल-विशेष (विपा १, ८—पत्र ८५) ।

विसरिअ वि [विस्मृत] याद नहीं आया हुआ (पि ३१३) ।

विसरिया स्त्री [दि] सरट, कृकलास, गिरगिट (राज) ।

विसरिस वि [विसदृश] असमान, विजातीय (सण) ।

विसलेस पुं [विश्लेष] जुदाई, वियोग, पृथग्भाव (चंड) ।

विसल्ल वि [विशाल्य] शल्य-रहित (पउम ६३, ११; वेइय ३८७) । ०करणी स्त्री [०करणी] विद्या-विशेष (सूअ २, २, २७) ।

विसल्ला स्त्री [विशाल्या] १ एक महौषधि (ती ५) । २ लक्ष्मण की एक स्त्री (पउम ६३, २६) ।

विसस सक [वि + शस्] वध करना, मार डालना; 'विससेह महिसे' (मोह ७६) । कवकृ. विससिज्जंत (गउड ३१६) ।

विसस देखो विस्सस = वि + श्वस् । कृ-विससिअव्व (सं १०८) ।

विससिय वि [विशसित] वध किया हुआ, जो मार डाला गया हो वह (गउड; ४७५; ससम्मत्त १४०) ।

विसह सक [वि + पह] सहन करना । विसहंति (उव) । वक्र. विसहंत (से १२, २३; सुपा २३३) । हेकृ. विसहिडं (स ३४६) ।

विसह वि [विपह] सहन करनेवाला, सहिष्णु; 'वसुंधरा इव सव्वफासविसहे' (कप्प; औप) । विसह देखो वसभ (गउड) ।

विसहण न [विपहण] १ सहन करना (धम्मसं ८६७) । २ वि. सहिष्णु (पव ७३ टी) ।

विसहिअ वि [विपोड] सहन किया हुआ (से ६, ३३) ।

विसाअ (अप) स्त्री [विश्वा] छन्द-विशेष (पिण) ।



विसाह वि [विपादिन्] विपाद-युक्त, शोक  
ग्रस्त (संशोध ३६) ।

विसाण न [विपाण] १ हाथी का दांत  
(पहल १, १—पत्र ८; अगु २१२) । २  
शृंग, सोंग (सुख ६, १; पात्र; औप) । ३  
सूअर का दांत (जवा) । ४ पुं. व. देश-विशेष  
(पउम ६८, ६५) ।

विसाण सक [विशाणय्] विसना, शाण  
पर चढ़ाना । कर्म. विसाणीअदि (शौ)  
(नाट—मृच्छ १३६) ।

विमाणि वि [विपाणिन्] १ सोंगवाला ।  
२ पुं. हाथी, हस्ती । ३ शृंगटक, सिवाड़ा ।  
४ ऋषभ नामक औषध (अगु १४२) ।

विसाय सक [वि + स्वाद्य्] विशेष चखना,  
खाना । वक्र. विसाएमाण (खाया १, १—  
पत्र ३७; कप्प) ।

विसाय पुं [विपाद] खेद, शोक, दिलगिरी,  
अफसोस (उव; गउड; सुपा १०४; हे १,  
१५५) । १ वंत वि [°वन्] विन्न, शोक-  
ग्रस्त (आ १४) ।

विसाय वि [विसात] १ चुन्न-रहित (विने  
१३६) । २ पुं. एक देव-विमान (सम ३८) ।

विसाय वि [विस्वाद] स्वाद-रहित; 'आम-  
यकारि विसायं मिच्छत्तं कयसणं व जं भुत्तं'  
(विने १३६) ।

विसार सक [वि + सारय्] फेलाना ।  
वक्र. विसारंत (उत्त २२, ३४) ।

विसार पुं [दे] सैन्य, सेना (पद्) ।

विसार वि [विस्तार] सार-रहित, निःस्सार  
(गउड) ।

विसारण न [विशारण] खण्डन (पिड  
५६०) ।

विसारणिय वि [विस्मारणिक] स्मारणा-  
रहित, जिसको याद न दिलाया गया हो वह  
(काल) ।

विसारय वि [दे] घृष्ट, डोठ, साहसी (दे ७,  
६६) ।

विसारय वि [विशारद] विद्वान्, परिउत,  
रुद्र (पहल १, ३—पत्र ५३; नग; औप;  
सुर १, १३; आत्म १६) ।

विसारि वि [विस्तारिन्] फैलनेवाला, व्यापक  
(गउड) । औ. °णी (कप्प) ।

विसारि पुं [दे] कमलासन, ब्रह्मा (दे ७,  
६२) ।

विसाल वि [विशाल] १ विस्तृत, बड़ा,  
विस्तारण, चौड़ा (पात्र; सुर २, ११६; प्रति  
१०) । २ पुं. एक ग्रह-देवता, अठ्ठासी महा-  
ग्रहों में एक महाग्रह (ठा २, ३—पत्र  
७८) । ३ एक इन्द्र, क्रन्दित-निकाय का  
उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र  
८५) । ४ पुं. देव-विमान विशेष (सम ३५;  
देवेन्द्र १३६; पव १६४) । ५ न. एक विद्या-  
धर-नगर (इक) ।

विसालय पुं [दे] जलधि, समुद्र (दे ७,  
७१) ।

विसाला औ [विशाला] १ एक नगरी का  
नाम, उज्जयिनी, उज्जैन (सुपा १०३; उव  
६८८) । २ भगवान् पार्वनाथ की दोला-  
शिविका (विचार १२६) । ३ जंबूद्वीप  
विशेष, जिससे यह जंबूद्वीप कहलाता है ।  
४ राजधानी-विशेष (इक) । ५ भगवान्  
महावीर की माता का नाम (सुत्र १, २,  
३, २२) । ६ एक पुष्करिणी (राज) ।

विसालिस देखो विसारिस (उत्त ३, १४) ।

विसासन वि [विशासन] विघातक, विना-  
शक; 'कुसुमयविसासन' (सम्म १) ।

विसासिअ वि [विशासित] १ मारित,  
हिसित, जिसका वव किया हो वह । २ विशेष  
रूप से धरित । ३ विश्लेषित, वियुक्त किया  
हुआ । ४ मार भंगया हुआ (से ८, ६३) ।

विसाह पुं [विशाख] स्कन्द, कार्तिकेय  
(पात्र) ।

विसाहा औ [विशाखा] १ तक्षत्र-विशेष  
(सम १०) । २ व्यक्ति-वाचक नाम, एक औ  
का नाम (वज्जा १२२) । ३ एक विद्याधर-  
कन्या (महा) ।

विसाहिअ वि [विसाधित] १ सिद्ध किया  
गया । २ न. संसिद्धि; 'खग्विसाहिअ वहि  
सहहुं पिय वहि देसहि जाहुं' (हे ४, ३८६;  
४११) ।

विसाही औ [वैशाखी] १ वैशाख मास की  
पूर्णिमा । २ वैशाख मास की अमावस  
(सुज्ज १०, ६) ।

विसि नी [दे] करि-शारी, गज-पर्याण (दे  
७, ६१) ।

विसि देखो विसि (हे १, १२८; प्राप्र) ।

विसिजमाण देखो विस = वि + श् ।

विसिट्ठ वि [विशिष्ट] १ प्रधान, मुख्य (सुत्र  
१, ६, ७; पहल २, १—पत्र ६६) । २  
विशेष-युक्त (महा) । ३ विशेष शिष्ट, सुख्य  
(वजा १६०) । ४ युक्त, सहित (पहल  
२३—पत्र ६७१) । ५ व्यतिरिक्त, भिन्न,  
विलक्षण (विसे) । ६ पुं. एक इन्द्र, द्वीपकुमार-  
देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—  
पत्र ८४) । ७ न. लगातार छः दिनों का  
उपवास (संशोध ५८) । ८ दिट्ठि औ [°ट्टि]  
अहिता (पहल २, १) ।

विसिट्ठि औ [विसिट्ठि] विपरीत क्रम (विरि  
८७८) ।

विसिण वि [दे] रोमश, प्रचुर रोमवाला (दे  
७, ६४) ।

विसिस सक [वि + शिप्] विशेषण-युक्त  
करना । कर्म. किरिया विस(सि)स्सए पुण  
नाणाउ, सुए जग्घो भणिएअं (अज्ज ५८;  
५६) ।

विसिह पुं [विशिख] १ बाण, तीर (पात्र;  
पउम ८, १००; सुपा २२; किरात १३) ।  
२ वि. शिखा-रहित (गउड ५३६) ।

विसी देखो विसी (हे १, १२८; प्राप्र) ।

विसी औ [विशति] वीत, वीस का समूह;  
'क्त्ती(त्ति)आओ भाअवदाणं विसीओ' (हास्य  
१३६) ।

विसीअ अक [वि + सद्] १ खेद करना ।  
२ निमग्न होना, डूबना । विसीयद्, विसीअति,  
विसीअए, विसीयह (सुत्र १, ३, ४, १; १,  
३, ४, ५; ठा ४, ४—पत्र २७८; उव) । वक्र.  
विसीअंत (पि ३६७) ।

विसीइय वि [विशीर्ण] १ जीर्ण, वृद्धि ।  
२ न. दूटना, जर्जरित होना; 'संवीहि विहडियं  
पिव विसीइयं सव्वअंमोहि' (सुर १२, १६६) ।

विसीरंत देखो विस = वि + श् ।

विशील वि [विशील] १ ब्रह्मचर्य-रहित, व्यभिचारो (वसु; उप ५६७ टी) । २ सराव स्वभाववाला, विष्प आचरणवाला (उत्त ११, ५) ।

विसुज्झ अक [ वि + शुभ् ] शुद्धि करना । विसुज्झइ (उव) । बह्व. विसुज्झंत, विसुज्झमाण (उप ३२० टी; ग्राया १: १—पत्र ६४; उवा; औप; मुर १६, १६१) ।

विसुणिय वि [विश्रुत] विज्ञात (परह १, ४—पत्र ८५) ।

विसुत्त वि [ विस्रोतस ] १ प्रतिहूल । २ सराव, दुष्ट (भवि) ।

विसुत्तिया देवो विसोत्तिया (आवक ५६; दस ५, १, ६) ।

विसुद्ध वि [विशुद्ध] १ निर्मल, निर्दोष (सम ११६; ठा ४, ४ टी—पत्र २८३; प्राप् २२; उव; हे ३, ३८) । २ विशद, उज्ज्वल (परह १—पत्र ४८६) । ३ पुं. ब्रह्मदेव-लोक का एक प्रतर (ठा ६—पत्र ३६७) ।

विसुद्धि वी [विशुद्धि] निर्दोषता, निर्मलता (औप; गा ७३७) ।

विसुमर सक [वि + स्मृ] भूल जाना, याद न आना । विसुमरइ, विसुमरामि (महा; पि ३१३), विसुमरेहि (स २०४) ।

विसुमरिअ वि [विस्मृत] चित्तका विस्मरण हुआ हो वह (स २६५; मुख २, २६; मुर १४, १७) ।

विसुराविय वि [खेदित] खिन्न किया हुआ; 'अरइद्विलासविसुरावियाण निव्वडइ सोहगं' (गउड १११) ।

विसुव न [ विपुवत् ] रात और दिन की समानतावाला काल, वह समय जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं (दे ७, ५०) ।

विसुद्धया वी [विमूचिअ] रोग-विशेष, हैजा (उव; मुर १६, ७२; आचा २, २, १, ४) ।

विसुणिय वि [विश्रुत] १ कुला हुआ, मुजा हुआ (परह १, १—पत्र १८) । २ काढा हुआ, उच्छुक्त (सूत्र १, ५, २, ६) ।

विसूर देवो विसुमर । विसूरइ (प्राक ६३) ।

विसूर अक [खिद] खेद करना । विसूरइ (हे ४, १३२; प्राप्र; उव) । बह्व. विसूरंत,

विसूरमाण (उव; गा ४१४; सुपा ३०२; गउड) । कृ. विसुरियञ्ज (गउड) ।

विसूरण न [खेदन्] १ खेद । २ पोड़ा (परह १, ५—पत्र ६४) ।

विसूरणा वी [खेदना] खेद, अफसोस; दुःख (से ५, ३) ।

विसूरिअ वि [खिन्न] खेद-युक्त, दिलगीर (से १०, ७६) ।

विसुहिय पुंन [विप्यगिहत] एक देव-विमान (सम ४१) ।

विसेटि वी [विश्रेणि] १ विदिशा-सम्बन्धी श्रेणि, बक्र रेखा । २ वि. विश्रेणि में स्थित (एदि; पि ६६; ३०४) ।

विसेस सक [ वि + शेषय् ] विशेष-युक्त करना, गुण आदि द्वारा दूसरे से भिन्न करना, विशेषण से अन्वित करना, व्यवच्छेद करना । विसेसइ, विसेसेइ (भवि; सण; सूअनि ६१ टी; भग; विते ७६; महा) । कर्म वितेसिज्जइ (विते ३१११) । संकृ. वितेसिडं (विते ३११४) । कृ. वितेसणिज्ज, वितेसस (विते २१५६; १०३५) ।

विसेस पुंन [ विशेष ] १ प्रमेद, पायंकर, भिन्नता; 'ए संपरायंसि वितेसमत्वि' (सूअ २, ६, ४६; भग; विते १०५, उव) । २ भेद, प्रकाठ 'दसविहे वितेसे पन्तते' (ठा १०, महा; उव) । ३ अनाधारण, अयुक्त व्यक्ति, खास (उव; जी ३६; महा; अभि २१०) । ४ पर्याय, धर्म, गुण (विते २६७) । ५ अघिकं, अतिशय, ज्यादा; 'तत्रो वितेसेण तं पुजं' (भग; प्राप् १७६; महा; जी ३६) । ६ तिलक । ७ साहित्यशास्त्र-प्रसिद्ध अलंकार-विशेष । ८ वैशेषिक-प्रसिद्ध अन्वय पदार्थ (दे १, २६०) । ९ 'नु' [इ] विशेष जानने वाला (सं ३२; महा) । १० 'ओ अ' [तस्] खास करके (महा) ।

विसेस पुं [विश्लेष] पृथक्करण (वव १) ।

विसेसण न [विशेषण] दूसरे से भिन्नता बतानेवाला गुण आदि (उप ४४४; भास ८६; पंच १, १२; विते ११५) ।

विसेसणिज्ज देवो वितेस = वि + शेषय् ।

विसेसय पुंन [विशेषक] तिलक, चन्दन आदि जा मस्तक-स्थित चिह्न (प्राप्र; से १०, ७४; वेणी ४६; गा ६३८; कुप्र २५५) ।

विसेसिअ वि [विशेषित] १ विशेषण-युक्त किया हुआ, भेदित (सम्म ३७; विते २६=७) । २ अतिशयित (प्राप्र) ।

विसेरस देवो वितेस = वि + शेषय् ।

विसोग वि [विशोक] शोक-रहित (आचा) ।

विसोत्तिया वी [विस्रोतसिका] १ विमार्ग-गमन, प्रतिकूल गति । २ मन का विमार्ग में गमन, अपव्यान, दुष्ट चिन्तन (आचा; विते ३०१२; उव; धर्मसं ८१२) । ३ शंका (आचा) ।

विसोपग पुंन [दे. विशेषक] कौड़ी का विसोपग } बीसवां हिस्सा (धर्मवि ५७; पंचा ११, २२) ।

विसोह सक [ वि + शोधय् ] १ शुद्ध करना, मल-रहित करना, निर्दोष बनाना । २ त्याग करना । विसोहइ, विसोहेइ (उव; सण; कस) । विसोहिज्ज (आचा २, ३, २, ३) । हेकृ. विसोहित्तए (ठा २, १—पत्र ५६) ।

विसोह वि [विशोभ] शोभा-रहित (दे-१, ११०) ।

विसोहण न [विशोधन] शुद्धि-करण (कस) । विसोहणया वी [विशोधना] ऊपर देखो (ठा ८—पत्र ४४१) ।

विसोहय वि [विशोधक] शुद्धि-कर्ता (सूअ १, ३, ३, १६) ।

विसोहि वी [विशोधि] १ विशुद्धि, निर्मलता, विशुद्धता (पउम १०२, १६६; उव; पिड ६७१; सुपा १६२) । २ अपराध के योग्य प्रायश्चित्त (ओष २) । ३ आवश्यक, सामयिक आदि पट्-कर्म (अणु ३१) । ४ भिक्षा का एक दोष, जिस दोषवाले आहार का त्याग करने पर शेष भिक्षा या भिक्षा-पात्र विशुद्ध हो वह दोष (पिड ३६५) । ५ 'कोडि वी [कोटि] पूर्वोक्त विशोधि-दोष का प्रकार (पिड ३६५) ।

विसोहिय वि [विशोधित] १ शुद्ध किया हुआ । २ पुं. मोक्ष-मार्ग (सूअ १, १३; ३) ।

विस्स देखो विस्स = विश् : देवीए जेण समयं ग्रहंपि अग्गोए विस्सामि' (सुर २, १२७)।  
 विस्स न [विस्स] ? कच्ची गन्ध, अणक्क मांस आदि की वू । २ वि. कच्ची गन्धवाला (प्राप्र; अग्नि १=४)। °गंधि वि [°गन्धिन्] आनगन्धि, अणक्क मांस के समान गंधवाला (अग्नि १=४)।  
 विस्स पुं [विश्व] ? एक नअत्र-देवता, उत्तरापादा नअत्र का अग्निष्ठाता देव (ठा २, ३—पत्र ७७; अणु १४५; सुज्ज १०, १२)। २ स. सर्व, सकल, सब (विसे १६०३; सुर १२, ५६)। ३ पुंन. जगत्, दुनियाँ (सुपा १३६; सम्मत्त १६०; रंभा)। °इ पुं [°त्तिन्] यज विशेष (प्राक् ६५)। °कम्म पुं [°कर्मन्] शिली-विशेष, देव-वर्धक (स ६००; कुप्र ६)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (सुपा ६३५)। °भूइ पुं [°भूति] प्रथम वानुदेव का पूर्व-भवीय नाम (सम १५३; पउम २०, १७१; भत्त १३७; ती ७)। °यम्म देखो °कम्म (स ६१०)। °वाइअ पुं [°वादिक्] भगवान् महावीर का एक गण (ठा ६—पत्र ४५१)। °सेण पुं [°सेन] ? भगवान् शान्तिनाथजी का पिता, एक राजा (पम १५१; १५२)। २ अहोरात्र का एक मुहूर्त (सम ५१)। देखो वीस = विश्व।  
 विस्सअ (मा) देखो विन्हय = विस्सय (पड्)।  
 विस्संत देखो वीसंत (सुपा ५=३)।  
 विस्संतिअ न [विश्रान्तिक] मयुरा का एक तीर्थ (ती ७)।  
 विस्संद सक [वि + स्यन्द्] टपकना, भरना, चूना। विस्संदति (ठा ४, ४—पत्र २७६)।  
 विस्संभ सक [वि + श्रम्भ्] विश्वास करना। कृ. विस्संभणिज्ज (आ १४; उपपं १६)।  
 विस्संभ पुं [विश्रम्भ] विश्वास, अट्टा (प्रयौ ६६; महा)। °घाइ वि [°घातिन्] विश्वास-घातक (खाया १, २—पत्र ७६)।  
 विस्संभण न [विश्रम्भण] विश्वास (माल १६६)।

विस्संभणया वी [विश्रम्भणा] विश्वास (आचा)।  
 विस्संभर पुं [विश्रम्भर] जन्तु-विशेष, भुजपरिसर्प की एक जाति (सुप्र २, ३, २५; श्रोघ ३२३)। २ मूपक, चूहा (श्रोघ ३२३)। ३ इन्द्र। ४ विष्णु, नारायण (नाट—चैत ३=८)।  
 विस्संभरा वी [विश्रम्भरा] पृथिवी, धरती (कुप्र २१३)।  
 विस्संभिय वि [विश्रब्ध] विश्वास-प्राप्त, विश्वासी (सुख १, १४)।  
 विस्संभिय वि [विश्रभृत्] जगत्-मुरक (उत्त ३, २)।  
 विस्सत्थ देखो वीसत्थ (नाट—शकु ५३)।  
 विस्सद्ध देखो वीसद्ध (अग्नि १६३; मुदा २२३)।  
 विस्सम अक [वि + श्रम्] थाक लेना। विस्समइ (प्राक् २६)। कृ. विस्समिअ (नाट—मालती ११)।  
 विस्सम पुं [विश्रम] विश्राम, विश्रान्ति (स्वप्न १०६)।  
 विस्समिअ देखो विस्संत (सुपा ३७२)।  
 विस्सर सक [वि + स्मृ] भूलना। विस्सरइ (वात्वा १५३)।  
 विस्सर वि [विस्वर] खराब आवाजवाला (सम ५०; पणह १, १—पत्र १=८)।  
 विस्सरण न [विस्सरण] विस्मृति, याद न आना (पभा २४; कुल १४)।  
 विस्सरिय वि [विस्मृत] भुला हुआ (उप पृ ११३)।  
 विस्सस सक [वि + श्रस्] विश्वास करना, भरोसा करना। विस्ससइ (प्राक् २६)। वकृ. विस्ससंत (आ १४)। कृ. विस्ससाणिज्ज (आ १४; भत्त ६६)।  
 विस्ससिअ वि [विश्रस्त] विश्वास-युक्त, भरोसा-पान (आ १४; सुपा ६=३)।  
 विस्साणिय वि [विश्राणित] दिया हुआ, आप्त (उप १३=८ वी)।  
 विस्साम देखो वीसाम (प्राक् २६; नाट—शकु २७)।  
 विस्सामण न [विश्रामण] चप्पी, अंग-मर्दन आदि भक्ति, वैयावृत्त्य (ती ८)।

विस्सामणां वी [विश्रामणा] ऊपर देखो (पव ३=८; हित २०)।  
 विस्साव देखो विसाय = वि + स्वाद्य् । कृ. विस्सायणिज्ज (खाया १, १२—पत्र १७४)।  
 विस्सार सक [वि + स्मृ] भूल जाना। संकृ. 'कोऊहलपरा विस्सारिऊण रायसासए अणणिऊण नियमुमि पविड्ढा नवारी' (महा)।  
 विस्सार सक [वि + स्मारय्] विस्मरण करवाना (नाट—मालती ११७)।  
 विस्सारण न [विसारण] विस्तारण, फैलाना (पव ३=८)।  
 विस्सावसु पुं [विश्रावसु] एक गन्धर्व, देव-विशेष (पउम ७२, २६)।  
 विस्सास पुं [विश्रास] भरोसा, प्रतीति, अट्टा (सुख १, १०; सुपा ३५२; प्राप्र)।  
 विस्सासिय वि [विश्रासित] जिसको विश्वास कराया गया हो वह (सुपा १७७)।  
 विस्साहल पुं [विश्राहल] अंग-विद्या का जानकार चतुर्थ ब्रह्म-पुरुष (विचार ४७३)।  
 विस्सुअ वि [विश्रुत] प्रसिद्ध, विख्यात (प्राप्र; श्रोघ; प्रासू १०७)।  
 विस्सुमारिय देखो विसुमारिअ (उप १२७)।  
 विस्सेणि वी [विश्रेणि, °णी] निःश्रेणि, विस्सेणी सीढ़ी (आचा)।  
 विस्सेसर पुं [विश्वेश्वर] काशी-विश्वनाथ, काशी में स्थित महादेव की एक मूर्ति (सम्मत्त ७५)।  
 विस्सोअसिआ देखो विसोत्तिआ (हे २, ६=८)।  
 विह सक [व्यथ्] ताड़न करना। वकृ. विहमाण (उत्त २७, ३; सुख २७, ३)।  
 विह देखो विस = विप (आचा; पि २६३)।  
 विह पुंन [दे] ? मार्ग, रास्ता (श्रोघ ६०६)। २ अनेक दिनों में उल्लंघनीय मार्ग (आचा २, ३, १, ११; २, ३, ३, १४)। ३ अट्टवी-प्राय मार्ग (आचा २, ५, २, ७)।  
 विह पुंन [विहायस्] आकाश, गगन (भाग २०, २—पत्र ७७५; दसनि १, २३)।  
 देखो विहग = विहायस्।

विह पुं० [विध] १ भेद, प्रकार (उवा; कप्)। २ पुं०, आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र ७७५; आचा १, ८, ४, ५; दसनि १, २३)।

विहद् स्त्री [दे] कृत्ताकी, वेगन का गच्छ (दे ७, ६३)।

विहंग पुं [विहङ्ग] पत्नी, चिड़िया, पत्खर (पात्र; गउड; कप्; सुर ३, २४५; प्रासू १७२)। १णाह पुं [नाथ] गड्ड पत्नी (गउड ८२३; ८२४; १०२२)।

विहंग पुं [विभङ्ग] विभाग, टुकड़ा; अंश (परह १, ३—पत्र ५४; गउड ४०४)।

देखो विभंग (गउड; भवि)।

विहंगम पुं [विहंगम] पत्नी, चिड़िया (गउड; मोह ३२; श्रु ७७; सण)।

विहंज सक [वि + भञ्ज] भांगना, तोड़ना, विनाश करना। संकृ. विहंजिचि (अप) (भवि)।

विहंजिअ वि [विभक्त] बाँटा हुआ; 'आगम-जुत्तपमाराविहंजिअ' (भवि)।

विहंड सक [वि + खण्डय] विच्छेद करना, विनाश करना। विहंडइ (भवि)।

विहंडण न [विखण्डन] १ विच्छेद, विनाश (सम्मत्त ३०)। २ वि. विच्छेद-कर्ता, विनाशक (सण)।

विहंडण वि [विभण्डन] भाँड़नेवाला, गालि-सूचक; 'भरणसि रे जइ विहंडणं वअणं' (गा ६१२)।

विहंडिअ वि [विखण्डित] विनाशित (पिग; सण)।

विहंग पुं [विहंग] पत्नी, चिड़िया (पउम १४, ८०; स ६६७; उत २०, ६०)।

विहिय पुं [धिप] गड्ड पत्नी (सम्मत्त २१६)।

विहया पुं० [विहायस्] आकाश, गगन। १ गइ स्त्री [गति] १ आकाश में गमन (पंचा ३, ६)। २ कर्म-विशेष, आकाश में गति कर सकने में कारण-भूत कर्म (सम ६७; कम्म १, २४; ४३)।

विहट्ट देखो विघट्ट। विहट्टइ (भवि)।

विहट्टिअ वि [विघट्टित] खरिडत, द्विधाभूत (से २, ३२)।

विहड अक [वि + घट्] नियुक्त होना, अलग होना, टूट जाना। विहडइ, विहडेइ (महा; प्राकृ ७१)। वकृ. विहडंत (से ३, १४)।

विहड सक [वि + घटय्] तोड़ना, खरिडत करना। संकृ. विहडिऊण (सण)।

विहड देखो विहल = विहल (से ४, ५४)।

विहडण न [विघटन] १ अलग होना, वियोग (सुपा ११६; २४३)। २ अलग करना। ३ खोलना; 'तह भौणा जह मउलि-यलोयणउउविहडणे वि असमत्था' (वजा ८८)।

विहडण पुं [दे] प्रनयं (पड्)।

विहडणा स्त्री [विघटना] वियोजन, अलग करना; 'संवडणविहडणावावडेण विहिया जणो नडिअ' (धर्मवि ४२)।

विहडण्ड वि [दे] १ व्याकुल, व्यग्र (हे २, १७४)। २ स्वरित, शीघ्र (भवि)।

विहडा स्त्री [विघटा] विभेद, अनैस्य, फाट-फुट; 'जह मह कुडुं वविहडा न घडइ कइयावि दंतकलहेण' (सुपा ४२१)।

विहडाव सक [वि + घटय्] विद्युक्त करना, अलग करना। विहडावइ (महा)।

विहडावण न [विघटन] वियोजन (भवि)।

विहडाविय वि [विघटित] वियोजित (साधं ७१)।

विहडिय वि [विघटित] १ वियुक्त, विच्छिन्न (महा ३६, ५)। २ खुला हुआ (महा ३०, ३०)।

विहण देखो विहण। विहणंति (पि ४६०)।

संकृ. विहत्तु (सुत्र १; ५, १, २१)।

विहणु वि [दे] संपूर्ण, सकल (सण)।

विहणण न [दे] पिजन, पीजना, धुनना (दे ७, ६३)।

विहत्त देखो विभत्त (से ७, १५; चेइय २७४; सुर १, ४७; सुपा ३६६)।

विहत्ति देखो विभत्ति (पउम २४, ५, उप पृ १४७)।

विहत्तु देखो विहण।

विहत्थ वि [विहस्त] १ व्याकुल, व्यग्र (से १२, ४९; कुप्र ४०६; सिरि ३८६; ८३६; सम्मत्त १६१)। २ कुशल, दक्ष; 'पहरणवि-

हत्थहत्था' (कुप्र १०३; २०६)। ३ पुं-विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु से युक्त हाथ; 'पढमं उत्तरिऊणं ववलो जा जाइ पाहुडवि-हत्थो' (सिरि ६६१); 'सद्वभाणविहत्थो' (उव)। ४ क्लोव (सम्मत्त १६१)।

विहरिय पुं० [वितस्ति] परिमाण-विशेष, वारह अंगुल का परिमाण (हे १, २१४; कुमा; अणु १५७)।

विहदि स्त्री [विधृति] १ विशेष धैर्य। २ वि. धैर्य-रहित (संवि ६)।

विहन्न } सक [वि + हन्] १ मारना, विहम्म } ताड़न करना। २ नाश करना।

३ अतिक्रमण करना। विहन्नई (उत २, २२)। कर्म. विहन्निजा (उत २, १)। वकृ.

विहम्ममाण, विहम्माण (पि ५६२; उत २७, ३)। कवकृ. विहम्ममाण (सुत्र १, ७, ३०)।

विहम्म वि [विधर्मन्] भिन्न धर्मवाला, विभिन्न, विलक्षण; 'मोत्तणायसहावं वसेज्ज वत्थुं विहम्मम्मि' (सिंसे २२४१)।

विहम्म सक [विधर्मय्] धर्म-रहित करना। वकृ. विहम्ममाण (विपा १, १—पत्र ११)।

विहम्म न [विधर्म्य] १ विधर्मता, विरुद्ध-धर्मता। २ तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध उदाहरण-भेद, वेधर्म्य-दृष्टान्त (सम्म १५३)।

विहम्माणा स्त्री [विधर्मणा, विहनन] कद-थंन, पीड़ा (परह १, ३—पत्र ५३; सिंसे २३५०)।

विहय वि [दे] पिजित, धुना हुआ (दे ७, ६४)।

विहय वि [विहत] १ मारा हुआ, ग्राह्य (पउम २७, २८)। २ विनाशित (महा)।

विहय देखो विहग = विहग (गउड; सण)।

विहय देखो विहय = विभय (दे ३, २६; नाट—मालवि ३३)।

विहर अक [वि + हृ] १ क्रीड़ा करना, खेलना। २ रहना, स्थिति करना। ३ सक-

गमन करना, जाना। विहरइ (हे ४, २५६; उवा; कप्; उव), विहरंति (भग), विहरेज्ज

(पव १०४)। भुका. विहरिसु, विहरित्था (उत २३, ६; पि ३५०; ५१७)। भवि.

विहरिस्सइ (पि ५२२)। वकृ. विहरंत,

विहरमाण (उत्त २३, ७; मुख २३, ७; श्रौष १२४; महा; भग) । संक्र. विहरिता, विहरिअ (भग, नाट—वक्र १०२) । विहरित्तप, विहरिउं (भग; डा २, १—पत्र ५२; उव) । क. विहरियच्च (उप १३१ टी) ।

विहर सक [ प्रति + ईश्र ] प्रतीक्षा करना, वाट जोहना । विहरइ (पड्) ।

विहर देखो विहार (उप ८३३ टी) ।

विहरण ने [विहरण] विहार (कुप्र २२) ।

विहरिअ न [दे] मुक्त, संभोग (दे ७, ७०) ।

विहरिअ वि [विहृत] जिसने विहार किया हो वह (श्रौष २१०; उव; कुप्र १६६) ।

विहल अक [वि + ह वल् ] व्याकुल होना । वक्र. विहलंत (स ४१५) ।

विहल देखो विहड = वि + घट् । वक्र. विहलंत (स १४, २६) ।

विहल वि [विह वल्] व्याकुल, व्यग्र (हे २, ५८; प्राक २४; पउम ८, २००; से ५, ५८; ना २८५; प्राप् ५; हास्य १४०; वज्जा २४; पड्; गउड) ।

विहल देखो विअल = विकल (संज्ञि ८) ।

विहल वि [विफल] १ निष्फल, निरर्थक (गउड; सुपा ३६६) । २ असत्य, झूठा; 'मिच्छा मोहं विहलं अलिअं असच्चं असम्भुअं' (पात्र) ।

विहल सक [विफल्य ] निष्फल बनाना, निरर्थक करना । विहलंति (उव) ।

विहलंवल ) वि [विह वल्ल] व्याकुल  
विहलंवल ) शरीरखाला (काप्र १६६; स २५५; मुख १८, ३५; मुर ६, १७३; सुपा ४४७); 'विण्णाविहलंवल पडिया' (मुर १५, २०४) ।

विहलिअ वि [विह वलित] व्याकुल किया हुआ (कुना ३, ४३; प्राप; महा) ।

विहलिअ देखो विहडिय (स ७, ४६) ।

विहलिअ वि [विफलित] विफल किया हुआ (सण) ।

विहल अक [वि + रु, वि + रुट् ?] १ आवाज करना । २ सक. विस्तार करना । विहलइ (धावा १४३) ।

विहल पुं [विहल] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (पडि) ।

विहव पुं [विभव] समृद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य (पात्र; गउड, कुमा: हे ४, ६०; प्राप् ७२; ७६) ।

विहवण न [विधवन] विनाश (राज) ।

विहवा स्त्री [विधवा] जिसका पति मर गया हो वह स्त्री, रांड (श्रौष; उव; गा ५३६; स्वप्न ५६; मुर १, ४३) ।

विहवि वि [विभविन्] संपत्ति-शाली, धनाढ्य (कुमा; सुपा ४२२; गउड) ।

विहव्य देखो विहव = विभव (नाट—मृच्छ ६६) ।

विहस अक [वि + हस्] १ विकसना, खिलना, प्रफुल्ल होना । २ हास्य करना, मध्यम प्रकार का हास्य करना । विहसइ, विहसए, विहसेइ, विहसंति (प्राक २६; सण; कुमा: हे ४, ३६५) । विहसेज, विहसेजा (कुमा ५, ८५) । भवि. विहसिहिइ, विहसेहिइ (कुमा ५, ८३) । वक्र. विहसंत, विहसंत (सि २, ३६; कुमा ३, ८८; ५, ८४) । संक्र. विहसिऊण, विहसिअ, विहसेऊण (गउड ८४५; ६१५; नाट—शक्र ६८; कुमा ५, ८२) । हेक. विहसिउं, विहसेउं (कुमा ५, ८२) ।

विहसाव सक [वि + हासय ] १ हँसाना । २ विकसित करना । संक्र. विहसाविऊण, विहसावेऊण (प्राक ६१) ।

विहसाविअ वि [विहासित] १ हँसाया हुआ । २ विकसित किया हुआ (प्राक ६१) ।

विहसिअ वि [विहसित] १ विकसित, खिला हुआ; प्रफुल्ल; 'विहसियविट्ठीए विहसियमुहोए' (महा; सम्मत ७६) । २ न. मध्यम प्रकार का हास्य (गउड ६६६; ७५१) ।

विहसिर वि [विहसित्] खिलनेवाला, विकसित होनेवाला ।

विहसिअविअ वि [दे] विकसित, खिला हुआ (दे ७, ६१) ।

विहस्सइ देखो विहस्सइ (पात्र; श्रौष) ।

विहा अक [वि + भा] शोभना, चमकना । विहादि (शौ) (पि ४८७) ।

विहा सक [वि + हा] परित्याग करना । संक्र. विहाय (सुप्र १, १४, १) ।

विहा अ [वृथा] निरर्थक, व्यर्थ, मुवा (पंचा १२, ५) ।

विहा स्त्री [विधा] प्रकार, भेद (कण; महा; अणु) ।

विहा देखो विहग = विहायस् (धर्मसं ६१६) ।

विहाइ वि [विधायिन्] कर्ता, करनेवाला (विद्य ४०३; उप ७६८ टी; धर्मवि १३६) ।

विहाउ वि [विधात्] १ कर्ता, निर्माता (विसे १५६७, पंचा ६, ३६) । २ पुं. पणपत्ति-देवों के उत्तर दिशा का इन्द्र (डा २, ३—पत्र ८५) ।

विहाउ सक [वि + घटय ] १ विभुक्त करना, अलग करना । २ विनाश करना । ३ खोलना, उघाड़ना । विहाउइ, विहाउंति (राय १०४; महा; भग); 'कम्मसमुगं विहाउंति' (श्रौष; राय) । संक्र. 'समुगयं तं विहाउंते' (धर्मवि १५) । क. विहाउयच्च (महा) ।

विहाड वि [विघाट] विकट (राज) ।

विहाड वि [विहाट] प्रकाश-कर्ता (सम्म २) ।

विहाडण न [दे] अनर्थ (दे ७, ७१) ।

विहाडिअ वि [विघटित] १ विभोजित, अलग किया हुआ (धर्मसं ७४२) । २ विनाशित (उप ५६७ टी) ।

विहाडिअ वि [विघटित] उद्घाति, खोला हुआ (उप ५४; वसु) ।

विहाडिर वि [विघटयित्] अलग करनेवाला विभोजक (सण) ।

विहाण पुं [दे] १ विधि, विधाता, देव, भाग्य (दे ७, ६०); 'माणुसमयज्जहवहं विहाणवाहो करेमाणो' (स १३०; भवि) । २ विहान, प्रभात, सुबह (दे ७, ६०; से ३, ३१; भवि; हे ४, ३३०; ३६२; सिरि ५२५) । ३ पूजन अर्चन; अग्रे चैत्र कूरदेव्याविहाणनिमित्तं पयारिऊण परियणं एयाए वावाइओ हविस्सई (स २६६) ।

विहाण न [विधान] १ शास्त्रोक्त रीति (उप ७६८; पत्र ३५) । २ निर्माण, रचना (पंचा

७, ५; रंभा; महा) । ३ प्रकार: भेद (से ३, ३१; परह १, १; भग) । ४ व्याकरणोक्त विधि-विशेष (परह २, २—पत्र ११४) । ५ अवस्था-विशेष (सूत्र २, १, ३२) । ६ विशेष: 'विहारमग्गणं पडुच्चं' (भग १, १ टी) । ७ रीति (महा) । ८ क्रम, परिपाटी (बृह १) ।

विहाण न [विहान] परिव्याण (राज) ।

विहाणिय (अप) वि [विधायिन्] कर्ता, करनेवाला (सण) ।

विहाय अक [वि + भा] १ शोभना । २ प्रकाशना, चमकना, दीपना । विहार्यति (स १२) । वक्र. विहार्यंत (सिरि २६८) ।

विहाय पुं [विघात] १ अवसान, अंत (से १, १६) । २ विरोधी, दुश्मन, परिपन्थी (से ८, ५४; स ४१२) ।

विहाय देखो विभाग (गउड; से ६, ३२) ।

विहाय वि [विभात] १ प्रकाशित, 'निसा विहाय ति उट्ठिओ कएहो' (कुप्र २६८) । २ न. प्रभात, प्रातःकाल (से १२, १६) ।

विहाय देखो विहग = विहायस् (आ २२) ।

विहाय देखो विहा = वि + हा ।

विहाय (अप) देखो विहिअ (भवि) ।

विहार सक [वि + धारय्] १ अपेक्षा करना । २ विशेष रूप से धारण करना । वक्र. विहारंत (पउम ८, १५६) ।

विहार पुं [विहार] १ विचरण, गमन, गति (पव १०४; उवा) । २ क्रीड़ा-स्थान (सम १००) । ३ देव-मह, देव-मन्दिर (उत ३०, ७; कुमा) । ४ अवस्थान, प्रवस्थिति; 'असासयं दट्ठु इमं विहारं' (उत १४, ७) । ५ क्रीड़ा (ठा ८; कप्प) । ६ मुनि-वर्तन, मुनि-चर्या, साध्वाचार (वव १; एण्दि; उव) । ७ भूमि स्त्री [भूमि] १ स्वाध्याय-स्थान (आचा २, १, १, ८; कस; कप्प) । २ विचरण-भूमि (वव ४) । ३ क्रीड़ा-स्थान । ४ चैत्य की जगह (कप्प; राज) ।

विहारि वि [विहारिन्] विहार करनेवाला (आचा; उव; आ १४) ।

विहालिय देखो विहाडिअ; 'दुवारं विहालियं पासइ' (उप ६४८ टी) ।

विहाव देखो विभाव = वि + भावय् । विहावइ, विहावेमि (भवि; रुक्मि ५७) । कवक. विहाविज्जमाण (स ४१) । क. विहावियव्व (उप ३४२) ।

विहावण न [विधापण] निर्माण, करवाना (चेइय ६६) ।

विहावण न [विभावन] आलोचना, 'एवं विचित्तियव्वं गुणदोसविहावणं परमं' (पंचा ६, ४६) ।

विहावरी स्त्री [विभावरी] रात्रि, निशा (पात्र; उप ७६८ टी; सुपा ३६३) ।

विहावसु पुं [विभावसु] अग्नि, आग (पात्र) । देखो विभावसु ।

विहाविअ वि [विभावित] दृष्ट, निरोक्षत; 'दिहुं विहाविअं' (पात्र; गा ५०७) ।

विहाविअ वि [विधावित] उल्लसित, प्रस्फुरित (स ६७) ।

विहास पुं [विहास] हँसी, उपहास (भवि) ।

विहास } देखो विहसाव । संक्र. विहा-  
विहासाव } सिऊण, विहासेऊण, विहा-  
साविऊण, विहासावेऊण (प्राक ६१) ।

विहासाविअ } देखो विहासाविअ (प्राक  
विहासिअ } ६१) ।

विहि पुं [विधि] १ ब्रह्म, चतुरानन, विघाता (पात्र; अचु ३७; वमसं ६२६; कुमा) । २ पुंस्त्री. प्रकार, भेद (उवा); 'सव्वाहि नयविहीहि' (पव १४६) । ३ शास्त्रोक्त विधान, अनुष्ठान, व्यवस्था (पंचा ६, ४८; औप) । ४ क्रम, सिलसिला, परिपाटी (बृह १) । ५ रीति । ६ नियोग, आदेश, आज्ञा । ७ आज्ञा-सूचक वाक्य । ८ व्याकरण का सूत्र-विशेष । ९ कर्म । १० हाथी को खाने का अन्न (हे १, ३५) । ११ देव, भाग्य; 'अणुकूलो अहव विही किवा तं जं न करेइ' (सुर ६, ८१; पात्र; कुमा; प्रासू ५८) । १२ नीति, न्याय । १३ स्थिति, मर्यादा (बृह १) । १४ कृति, करण (पंचा ११) । १५ ननु वि [इ] विधि का जानकार (एंगाया १, १—पत्र ११; सुर ८, ११८) । १६ वयण न [वचन] विधि-वाक्य, विधि-वाद, विध्युपदेश (चेइय ७४४) । १७ वायं पुं [वादि] वही पूर्वोक्त अर्थ (भास ७५; चेइय ७४४) ।

विहिअ वि [विहित] १ कृत, अनुष्ठित, निर्मित (पात्र; महा) । २ चेष्टित (औप) । ३ शास्त्र में जिसका विधान हो वह, शास्त्रोक्त (पंचा १४, २७) ।

विहिंस सक [वि + हिंस] विविध उपायों से मारना, वध करना । विहिंसइ (आचा १, १, १, ४) । क. विहिंस (परह १, २—पत्र ४०) ।

विहिंस वि [विहिंस] हिंसा करनेवाला, 'अ-विहिंसे सुव्वए दंते' (आचा १, ६, ४, ३) ।

विहिंसग वि [विहिंसक] वध करनेवाला (आचा; गच्छ १, १०) ।

विहिंसण न [विहिंसण] विविध प्रकार से मारना (परह १, १—पत्र १८) ।

विहिंसा स्त्री [विहिंसा] १ विशेष हिंसा (परह १, १—पत्र ५) । २ विविध हिंसा (सूत्र १, २, १, १४) ।

विहिण्ण } वि [विभिन्न] १ जुदा, अलग  
विहिन्न } (से ७, ५३; १३, ८६; भवि) ।  
२ खण्डित, भांग कर टुकड़ा-टुकड़ा बना हुआ (से ३, ६०) ।

विहिम न [दे] जंगल, अरण्य (उप ८४२ टी) ।

विहिमिहिय वि [दे] विकसित, प्रफुल्ल (पड्) ।

विहियव्व देखो विहे = वि + घा ।

विहिविल्ल सक [वि + रचय्] बनाना, निर्माण करना । विहिविल्लइ (प्राक ७४) ।

विहीण वि [विहीण] १ वज्रित, रहित (प्रासू १७२) । २ त्यक्त (कुमा) ।

विहीर सक [प्रति + ईक्ष्] प्रतीक्षा करना, बाट जोहना । विहीरइ (हे ४, १६३), विहीरह (स ४१८) ।

विहीर वि [प्रतीक्ष्] प्रतीक्षा करनेवाला (कुमा ७, ३८) ।

विहरिअ वि [प्रतीक्षित] जिसकी प्रतीक्षा की गई हो वह (पात्र) ।

विहीसण देखो विभीसण (से ४, ५५) ।

विहीसिया देखो विभीसिया (सुपा ५४१) ।

विहु पुं [विधु] १ चन्द्र, चाँद (पात्र) । २ विष्णु, श्रीकृष्ण । ३ ब्रह्मा । ४ शंकर,

महादेव । ५ नायु, पयन । ६ कपूर (दि ३, १६) ।

विभुअ वि [विभुत] कम्पित (गा ६६०; गउड) । २ उन्मूलित, उखाड़ा हुआ (से १, ५५) । ३ त्यक्त (गउड) ।

विभुडुअ पुं [दि] राहु, प्रह-विशेष (दि ७, ६५) ।

विभुण सक [वि+धू] १ कौपाना, हिलाना । २ हूर करना, हटाना । ३ त्याग करना । ४ कुण्ठ करेना, क्लम करेना । विभुणप्र, विभुणति (भवि; पि ५०३), विभुणाहि (उत्त १०, ३) । कर्म. विभुण्वइ (पि ५३६) । वक्र. विभुणंत, विभुणमाण (सुपा २७२; पउम २४, ३५) । कवक. विभुण्वंत (से ६, ३५; ७, २१) । संक. विभुणिय (सुप्र १, २, १, १५; यति २१; स ३०८) ।

विभुणण न [विभून्न] १ दूरीकरण (पउम १०१, १६) । २ व्यजन, पंखा (राज) ।

विभुणिय वि [विभूत] देखो विभुअ (सुपा २५३; यति २१) ।

विभुर वि [विधुर] १ विकल, व्याकुल, विह्वल (स्वप्न ६३; महा; कुमा; दे १, १५; सुपा ६२; गउड. सण) । २ क्षीण (गउड १०३६) । ३ विसहस, विलक्षण, विपय; 'अवि-सिद्धमिनि जोगमि वाहिरे होइ विहुरया' (श्रीघ ५१) । ४ विच्छिष्ट, विपुक्त (गउड ८३६) । ५ न. व्याकुल-भाव, विह्वलता; 'विलोहए विहुरमि' (स ७२६; वज्रा ३२; ६४; प्रानू ५८; भवि; सण) ।

विभुराइअ वि [विधुरायित] व्याकुल बना हुआ (गउड १११ टो) ।

विभुरिज्जमाण वि [विधुरायमाण] व्याकुल बनता (सुपा ४१६) ।

विभुरिय वि [विधुरित] १ व्याकुल बना हुआ (सुर २, २१६; ६ ११५; महा) । २ विपुक्त बना हुआ, विछुड़ा हुआ, विरहित (गउड) ।

विभुरीकय वि [विधुरीकृत] व्याकुल किया हुआ (कुमा) ।

विहुल देखो विहुर (पात्र) ।

विहुल वि [विहुल] १ पिना हुआ । २ उन्माही; 'नियकजविहुली' (भवि) ।

विहुल्यंत देखो विहुण ।

विहुअ वि [विभूत] १ कम्पित, (मान १७८) । २ कम्पित, रक्षित; 'कम्पिहि-र-क्ययसी' (पउम ५५, ५) । देखो विभूत, विहुअ ।

विहुइ देखो विभुइ (सन्तु १४; भवि) ।

विहुण देखो विहुण । संक. विहुणिया (प्राचा १, ७, ८, २४; सुप्र १, १, २, १३; वि ५०३) ।

विहुण देखो विहीण (कुमा; डर) ।

विहुणय न [विभूतक] व्यजन, पंखा (सुप्र १, ४, २, १०) ।

विहुसण देखो विभूसण (दि ६, १२७; सुपा १६१; कुप्र २६) ।

विहुसा छो [विभूपा] १ सोना (सुपा ६२१; दि ६, ८३) । २ कर्मकार यादि में शरीर को सजावट (पंचा १०, २१) ।

विहुसिअ वि [विभूषित] विभूषा-गुक्त, प्रलंकृत (भवि) ।

विहू सक [वि+धा] करना, बनाना । विहूइ, विहेति, विहेसि, विहेमि (पर्मसं १०११; स ६३४; ७१२; गउड ३३२; कुमा ७, ६७) । संक. विहूऊण (पि ५०५) । हेक. विहूइं (हित १) । क. विहियव, विहेअ, विहेअव्य (सुपा १५८; हि २२; धम्मो ४; महा; सुपा १६३; धा १२; हि २; पउम ६६, १८; सुपा १५६) ।

विहेड सक [वि+हेटय] २ मारना, हिना करना । २ पीड़ा करना । वक्र. विहेडयंत (उत्त १२, ३६) । कवक. 'विहम्मणाहि विहेड (हेट)यंत' (पण्य १, ३—पत्र ५३) ।

विहेडय वि [विहेठक] अनादर-कर्ता (दस १०, १०) ।

विहेडि वि [विहेटिन्] १ हिता करनेवाला । २ पीड़ा करनेवाला; 'अणे मत्ते ग्रहियंति पाणभूयविहेडियो' (सुप्र १, ८, ४) ।

विहेडिय वि [विहेटित] पीड़ित (भत्त १३३) ।

विहेटणा छो [विहेटणा] इतरना, पीड़ा (उप) ।

विहोइ वक्र [वाउय] वापन करना । विहोइइ (दि २, २७) ।

विहोडिअ वि [वाडिय] विपन्न वापन किया गया (सुपा) ।

विहोय (ध) देखो विहूय (भवि) ।

वी देखो वि = वीज. वि. 'एवमं विप. यान न वी. दुतां वीनेइ अणियविपविहू' (पउम १७, १२) ।

वीअ सक [वीजय] हवा चलाना, पंखा करना । वीअयंति भवि (६), वीअयंति (सुर १, ६६) । वक्र. वीअंत (सा ८६; सुर ७, ८८) । कवक. विहूअंत, वीअज्जाण (से ६, ३७; साया १, १—पत्र ३३) ।

वीअ वि [दि] १ विपुत्र, व्याकुल । २ लक्ष्मण, नारदाधिक, उखी लक्षण (दि ६, ६३) ।

वीअ देखो वीअ = वीजय (कुमा; गा ८६; २०६; ४०६; गउड) ।

वीअ वि [वीअ] पिण्ड, नष्ट (भुग वक्रक ६६) । 'कन्ह न [कदम ?] २ नोय-विशेष । २ वृद्धि, उम मोन में उलान (डा ७—पत्र ३६०) । 'धूम वि [धूम] उप-रहित (सा ७, १—पत्र २६१) । 'वमय, 'भयान [भय] १ नगर-विशेष, विभुतो वीर

देव की प्राचीन राजधानी (पर्मवि १६; २१; एका विनाद ५८; महा) । २ वि. नय-रहित (धर्मवि २१) । 'मोह वि [मोह] मोह-रहित (समक ६६) । 'राग, 'राय वि [राग] राग-रहित, शीख-राग (भग; सं ४१) । 'सोग पुं [सोक] एक महाप्रह (सुप्र २०; डा २, ३—पत्र ७६) । 'सोमा छो [सोमा] सविनायकी नामक विजय-प्राप्त की राजधानी, नगरी-विशेष (साया १, ८—पत्र १२१; दस; पउम २०, १४२) ।

वीअजमण देखो वीअजमण (दि ६, ६३ टो) । वीअग न [वीजन] १ हवा करना, पंखा से हवा करना (कपू) । २ जीन, पंखा, व्यजन (सुर १, ६६; कुप्र ३३३; महा) । छो. 'वी (श्रीघ सुप्र १, ६, ८; साया १, १—पत्र ३२) ।

वीआचिय वि [वीजित] जिसको पंखा से हवा कराई गई हो वह (स ५४६)।

वीइ पुंज्ञी [वीचि] १ तरंग, कल्लोल (पात्र; श्रौप)। २ आकाश, गगन (भग २०, २—७७५)। ३ संप्रयोग, संवन्ध (भग १०, २—पत्र ४६५)। ४ पृथग्-भाव, जुदाई (भग १४, ६ टी—पत्र ६४४)। °द्वय न [°द्वय] प्रदेश से न्यून द्वय, अद्वय-हीन वस्तु (भग १४, ६ टी—पत्र ६४४)।

वीइ ली [विकृति] १ विरूप कृति, दुष्ट क्रिया। २ वि. दुष्ट क्रियावाला (भग १०, २—पत्र ४६५)। ३ देखो विगइ (कम ४, ५ टी)।

वीइंगाल वि [वीताङ्गार] राग-रहित (भग ७, १—पत्र २६२; पि १०२)।

वीइकंत वि [व्यतिक्रान्त] १ व्यतीत, गुजरा हुआ; 'वासीए राईदिएहि वीइकंतहि' (सम ८६)। २ जिसने उल्लंघन किया हो वह (भग १०, ३ टी—पत्र ४६६)।

वीइकम सक [व्यति + क्रम] उल्लंघन करना। वक्र. वीइकममाण (कस)।

वीइजमाण देखो वीअ = वीजय्।

वीइमिस्स वि [व्यतिमिश्र] मिश्रित, मिला हुआ (आचा)।

वीइय वि [वीजित] जिसको हवा की गई हो वह (श्रौप; महा)।

वीइयय सक [व्यति + व्रज्] १ परिभ्रमण करना। २ गमन करना, जाना। ३ उल्लंघन करना। वीइययइ; वीइययजा, वीइययजा (सुज २० टी; भग १०, ३—पत्र ४६८)। वक्र. वीइययमाण (राया १, १—पत्र ३१)। संक्र. वीइययत्ता, वीइययत्ता (भग २, ८; १०, ३—पत्र ४६६)।

वीई ली. देखो वीइ = वीचि (पात्र; भग १०, २; २०, २)।

वीई अ [विचिच्य] पृथग् होकर, जुदा होकर (भग १०, २—पत्र ४६५)।

वीई अ [विचिच्य] चिन्तन करके (भग १०, २—पत्र ४६५)।

वीईयय देखो वीइयय। वीईययइ (भग; सुज २० टी; भग ७, १०—पत्र ३२४)। वक्र.

वीईययमाण (राय १६; पि ७०; १५१)। वीचि देखो वीइ = वीचि (कप्प; भग १४, ६—पत्र ६४४)।

वीचि ली [दे] लघु रथ्या, छोटा मुहल्ला (दे ७, ७३)।

वीज देखो वीअ = वीजय्। वीजइ, वीजेमि (हे ४, ५; पइ मै ६६)।

वीजण देखो वीअण (कुमा)।

वीजिय देखो वीइय (स ३०८)।

वीडग } देखो वीडग (स ६७)।  
वीडय }

वीडय पुं [वीडक] लजा, शरम (गउड ७३१)।

वीडिअ वि [वीडित] लजित, शरमिन्दा (राया १, ८—पत्र १४३)।

वीडिआ ली [वीडिका] सजाया हुआ पान, बीड़ा (गउड)। देखो वीडी।

°वीड देखो पीड (गउड; उप पृ २२६; भवि)।

वीण सक [वि + चारय्] विचार करना। वीणइ, वीणइ (धात्वा १५३; प्राकृ ७१)।

°वीण देखो पीण (सुर १३, १८१)।

वीणण न [दे] १ प्रकट करना (उप पृ ११८)। २ विदित करना, ज्ञापन (उप ७६५)।

वीणा ली [वीणा] वाद्य-विशेष (श्रौप; कुमा; गा ५६१; स्वप्न ६७)। °यरिणी ली [°करी] वीणा-नियुक्त दासी; 'ता लहु वीणायरिणि सहेहि, सद्दिया वीणायरिणी' (स ३०६)। °वायग वि [°वादक] वीणा बजानेवाला (महा)।

वीत देखो वीअ = वीत (ठा २, १—पत्र ५२; पण १०—पत्र ४६४; सुज २०—पत्र २६५)।

वीतिकंत } देखो वीइकंत (भग १०, ३—  
वीतिकंत } पत्र ४६८; राया; १, १—पत्र २४, २६)।

वीतिवय } देखो वीइयय। वीतिवयंति (भग)।  
वीतीवय } वीतीवयइ (राया १, १२—पत्र १७४)। वक्र. वीतिवयमाण (कप्प)। संक्र. वीतिवयत्ता (श्रौप)।

वीमंस सक [वि + मृश, मीमांस] विचार करना, पर्यालोचन करना। संक्र. वीमंसिय (सम्मत्त ५६)।

वीमंसय वि [विमंशक, मीमांसक] विचारकर्ता (उव)।

वीमंसा ली [विमंश, मीमांसा] विचार, पर्यालोचन, निर्णय की चाह (सूय १, १, २, १७; विसे २८६; ३६६; ५६५; उप ५२०)।

वीमंसिय वि [विमंशित, मीमांसित] विचारित, पर्यालोचित (सम्मत्त ५४)।

वीर पुं [वीर] १ भगवान् महावीर (पणह १, १—पत्र २३; १, २; सुज २०; जी १)। २ छन्द-विशेष (पिग)। ३ साहित्य-प्रसिद्ध एक रस (अणु १३६)। ४ वि. पराक्रमी, शूर (आचा; सूय १, ८, २३; कुमा)। ५ पुंन. एक देव-विमान (सम १२; इक)। ६ न. वैताड्य पर्वत की उत्तर श्रेणी में स्थित एक विद्याधर-नगर (इक)। °कंत पुंन [°क्रान्त] एक देव-विमान (सम १२) °कणह पुं [°कृष्ण] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (निर १, १; पि ५२)। °कणहा ली [°कृष्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अंत २५)। °कूड पुंन [°कूट] एक देव-विमान (सम १२)। °गत पुंन [°गत] एक देव-विमान (सम १२)। °जस पुं [°यशस्] भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेनेवाला एक राजा (ठा ८—पत्र ४३०)। °ज्मय पुंन [°ध्वज] एक देव-विमान (सम १२)। °धवल पुं [°धवल] गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा (ती २; हम्मीर १३)। °निहाण न [°निधान] स्थान-विशेष (महा)। °प्पभ न [°प्रभ] एक देव-विमान (सम १२)। °भद्र पुं [°भद्र] भगवान् पाशवनाथ का एक गण-वर (सम १३; कप्प)। °मई ली [°मती] एक चोर-मगिनी (महा)। °लेस पुंन [°लेस्य] एक देव-विमान (सम १२)। °वण्ण पुंन [°वर्ण] एक देव-विमान (सम १२) °वरण न [°वरण] प्रतिशुभ से युद्ध का स्वीकार, 'इस योद्धा से मैं लड़ूँगा' ऐसी युद्ध की मांग (कुमा ६, ४६; ५२)। °वरणी ली



[<sup>०</sup>वरणी] प्रतिमुष्ट से प्रथम शत्रु-प्रहार की याचना (निरि १०२४)। <sup>०</sup>वल्य न [<sup>०</sup>वल्य] मुष्ट का एक ग्राम्भरण, वीरत्व-सूचक कड़ा (कण्य; तंदु २६)। <sup>०</sup>विराली स्त्री [<sup>०</sup>विराली] क्ली-विशेष (परण १—पत्र ३३)। <sup>०</sup>सिग पुंन [<sup>०</sup>शृङ्ग] एक देव-विमान (सम १२)। सिट्ट पुंन [<sup>०</sup>सृष्ट] एक देव-विमान (सम १२)। <sup>०</sup>सेण पुंन [<sup>०</sup>सेन] एक प्रसिद्ध वीर यादव का नाम (णाय १, ५—पत्र १००; अंत; उप ६४८ टी)। <sup>०</sup>मेणिय पुंन [<sup>०</sup>सैनिक, श्रेणिक] एक देव-विमान (सम १२)। <sup>०</sup>वत्त पुंन [<sup>०</sup>वत्त] देवविमान-विशेष (सम १२)। <sup>०</sup>सण न [<sup>०</sup>सण] आसन-विशेष, नीचे पैर रखकर सिंहासन पर बैठने के जैसा अवस्थान (णाय १, १—पत्र ७२; भग)। <sup>०</sup>सणिय वि [<sup>०</sup>सणिक] वीरासन से बैठनेवाला (ठा ५, १—पत्र २६६; कस; श्रौप)।

वीरंगय पुं [<sup>०</sup>वीराङ्गय] १ भगवान् महावीर के पात दीक्षा लेनेवाला एक राजा (ठा ८—पत्र ४३०)। २ एक राजकुमार (उप १०३१ टी)।

वीरण स्त्री [वीरण] वृण-विशेष, उशीर, खस (अणु २१२; पात्र)।

वीरह पुं [<sup>०</sup>वीरह] श्वेन पत्नी (परह १, १—पत्र ८; १३)।

वीरिअ पुं [<sup>०</sup>वीर्य] १ भगवान् पार्श्वनाथ का एक मुनि-संघ। २ भगवान् पार्श्वनाथ का एक गणघर (ठा ८—पत्र ४२६)। ३ पुंन, शक्ति, सामर्थ्य (उवा; ठा ३, १ टी—पत्र १०६)। ४ अन्तरंग शक्ति, आत्म-बल (प्रासू ४६; अजक ६५)। ५ पराक्रम (कम्म १, ५२)। ६ एक देव-विमान (देवेन्द्र १३१)। ७ शरीर-स्थित एक धातु, शुक। ८ तेज, दीप्ति (हे २, १०७; प्राप्र)।

वीरुगी स्त्री [वीरुगी] पर्व-वनस्पति विशेष, 'वीरुणा (? री) तह इकडे य मासे य' (परण १—पत्र ३३)।

वीरुत्तरवडिसग पुंन [वीरुत्तरावतंसक] एक देव-विमान (सम १२)।

वीरुहा स्त्री [वीरुहा] विस्तृत लता (कुप्र ६५; १३९)।

वीरुण वि [वीरु] गिच्छित, सिग्ध, मरुण, चिकना (दे ७, ७३)।

वीरुय देतो वीरुय (दे ६, ६३)।

वीरुली स्त्री [वीरु] १ तरंग, मल्लोत (दे ७, ७३)। २ वीथी, पंक्ति, श्रेणी (पट्)।

वीवाह देतो वीवाह = विवाह; 'एसा एसा वुया पल्लहिया ता इमाए वीवाह' (सुर ७, १२१; महा)।

वीवाहण न [विवाहण] विवाह करण, विवाह क्रिया (उप ६८६ टी, निरि १५१)।

वीवाहिन वि [वीवाहिक] विवाह-मान्दवी (धर्मवि १४७)।

वीवाहिय वि [विवाहित] विनती श्राद्ध की गई हो वह (महा)।

वीवी स्त्री [वी] वीचि, तरंग (पट्)।

वीस देतो विस्स = विस्स (सूप्र २, २, ६६; संति २०)।

वीस देतो विस्स = विस्स (सूप्र १, ६, २२)। <sup>०</sup>उरी स्त्री [<sup>०</sup>पुरी] नगरी-विशेष (उप ५६२)।

<sup>०</sup>सअ वि [<sup>०</sup>सज्ज] जगल्लतां (पट्)। <sup>०</sup>सेण पुंन [<sup>०</sup>सेन] १ चक्रवर्ती राजा; 'जोहेसु एण जह वीससेणे' (सूप्र १, ६, २२)।

२ पुंन, अहोरात्र का १८ वां वृहत्तं (सुज्ज १०, १३)।

वीस<sup>०</sup> स्त्री [विशति] १ संख्या-विशेष, वीसइ } वीस, २०। २ जिनकी संख्या

वीस हीं वे (कण्य; कुमा; प्राकृ ३१; संति २१)। <sup>०</sup>म वि [<sup>०</sup>म] १ वीसवां; २० वां (सुपा ४५२; ४५७; पउम २०, २:८; पव ४६)। २ न, लगातार नव दिनों का

उपवास (णाय १, १—पत्र ७२)। <sup>०</sup>हा अ [<sup>०</sup>धा] वीस प्रकार से (कम्म १, ५)।

वीसंत वि [विश्रान्त] १ विद्याम-प्राप्त, जिसने विद्यापित ली हो वह; 'परिस्संता वीसंता नग्गाहतस्सले' (कुप्र ६२; पउम ३३, १३; दे ७, ८६; पात्र; सण; उप ६४८ टी)।

वीसंदण न [विस्सन्दण] दही की तर और श्रादे से बनता एक प्रकार का छाद्य (पव ४; पमा ३३)।

वीसंम देतो विस्संम = वि + अस्म। वीसंमइ (सूप्र २, १, १)।

वीसंम देतो विस्संम = वि + अस्म (उवा; प्राप्र; ना ४३७)।

वीसंम वि [विश्रत] विद्याम-पुस्तक (प्राप्र; ना ६०८)।

वीसइ वि [विश्रव्य] विद्याम-पुस्तक (ना ३७६; अमि ११६; भवि; नाट—सूप्र १६१)।

वीसंम देतो विस्संम = वि + अस्म। वीसंमइ (सूप्र २, १, १)।

वीसंम देतो विस्संम = वि + अस्म (उवा; प्राप्र; ना ४३७)।

वीसंमिअ देतो विस्संमिअ (उप ६, ७७१ १५, २३; पउम १०, ५२; पमंवि ४६)।

वीसंम वि [विश्रत] विद्याम-पुस्तक (प्राप्र; ना ६०८)।

वीसइ वि [विश्रव्य] विद्याम-पुस्तक (ना ३७६; अमि ११६; भवि; नाट—सूप्र १६१)।

वीसंम देतो विस्संम = वि + अस्म। वीसंमइ, वीसंमामो (पट्; महा; नि १८६)। वक, वीसंममाण (पउम ३२, ४२; नि ४८६)।

वीसंम देतो विस्संम = वि + अस्म (पट्)।

वीसंम देतो वीसंम।

वीसंमिअ वि [विश्रमिअ] विद्याम करनेवाला (सण)।

वीसर देतो विस्सर = वि + स्सु। वीसरइ (हे ४, ७५; ४२६; प्राकृ. ६३; पट्; भवि), वीसरंति (रंता)।

वीसर देतो वीसर = विस्सर; 'वीसरत्तं रसंतो जो गो जोणीडुहायो निष्किइ' (तंदु १४)।

वीसरणालु वि [विस्सर्ह] बून जानेवाला (श्रौप ४२५)।

वीसरिअ देतो विस्सरिय (ना ३६१)।

वीसय (अप; सक [वि + अस्मय] विद्याम करवाना। वीसयइ (भवि)।

वीसस देतो विस्सस। वीससइ (पि ६४; ४६६)। वक, वीससंत (पउम ११३, ५)। क, वीससणिज्ज, वीससणीअ (उत्त २६, ४२; नाट—नालवि ५३)।

वीससा अ [विस्ससा] त्वभाव, प्रकृति (ठा ३, ३—पत्र १५२; भग; णाय १, १२)।

वीससिय वि [वेससिक] स्वाभाविक (आवम)।

वीसा देतो वीसइ (हे १, २८; ६२; ठा ३, १—पत्र ११६; पट्)।

वीसा स्त्री [विश्वा] श्रुतिया, घरती (नाट)।

वीसाण पुं [विष्वाण] आहार, भोजन (हे १, ४३)।

वीसाम पुं [विश्राम] १ विराम, उपरम । २ प्रवृत्त व्यापार का अवसान, चालू क्रिया का अंत (हे १, ४३; से २, ३१, महा) ।

वीसामण देखो विस्सामण (कुप्र ३१०) ।

वीसामणा देखो विस्सामणा (कुप्र ३१०) ।

वीसाय देखो विसाय = वि + त्वाद्य् । कृ. विसायणिज्ज (पण्ण १७—पत्र ५३२) ।

वीसार देखो विस्सार = वि + स्मृ । वीसारिइ (वर्मवि ५३?) ।

विसारिअ वि [विस्मारित] बुलवाया हुआ (कुमा) ।

वीसाल सक [मिश्रय्] मिलाना, मिलावट करना । वीसालइ (हे ४, २८) ।

वीसालिअ वि [मिश्रित] मिलाया हुआ (कुमा) ।

वीसायँ (अप) देखो वीसाम (कुमा) ।

वीसास देखो विस्सास (प्राप्र; कुमा) ।

वीसिया वी [विशिका] वीस संख्यावाला (वव १) ।

वीसु न [दे] युतक, पृथग्, जुदा (दि ७, ७२) ।

वीसुं अ [विष्यक] १ समन्तात्, सब ओर से । २ समस्तपन, सामस्त्य (हे १, २४; ४३; ५२; पड; कुमा; दे ७, ७३ टी) ।

वीसुंभ देखो वीसंभ = वि + अम्भ् । वीसुंभेज्जा (ठा ५, २—पत्र ३०८; कस) ।

वीसुंभ अक [दे] पृथग् होना, जुदा होना । वीसुंभेज्जा (ठा ५, २—पत्र ३०८; कस) ।

वीसुंभण न [दे] पृथग्भाव, अलग होना (ठा ५, २ टी—पत्र ३१०) ।

वीसुंभण न [विश्रम्भण] विद्यास (ठा ५, २ टी—पत्र ३१०) ।

वीसुय देखो विस्सुअ (पण्ह १, ४—पत्र ६८) ।

वीसेदि } देखो विसेदि (मास १०; एंदि वीसेणि } १८४) ।

वीहि पुंन [वीहि] धान, धान्य-विशेष; 'सालीण' वा 'वीहीण' वा 'कोइवाण' वा 'कंण्णिण' वा' (सूअ २, २; ११; कस) ।

वीहि } वी [वीथि, का, थी] १ मार्ग, वीहिया } रास्ता (आचा; सूअ १, २, १; वीही } २१; प्रयो १००; गड्ड ११८८) । २ श्रेणी, पंक्ति (स-१४) । ३ क्षेत्र-भाग (ठा ६—पत्र ४६८) । ४ बाजार (उप २८; महा) ।

वुअ वि [दे] १ बुना हुआ । २ बुनवाया हुआ; 'जत्त तयट्ठा कीयं नेव बुयं जं न गहियगन्नेसि' (पव १२५) । देखो वूय ।

वुअ } वि [वृत्त] १ प्रार्थित । २ प्रार्थना वुइय } आदि-वि नियुक्त; 'बुओ' (संखि ४) । ३ वेष्टित; 'कुक्कम्मवुइया' (सुपा ६३) ।

वुइय वि [उक्त] कथित (उत्त १८, २६) ।

वुंज (?) सक [उद् + नमय्] ऊंचा करना ।

वुंजइ (धात्वा १५४) ।

वुंताकी वी [वृन्ताकी] वैगन का गाछ (दे ७, ६३) ।

वुंद देखो वंद = वृन्द (गा ५५६; हे १, १३१) ।

वुंदारय देखो वंदारय (दे १, १३२; कुमा; पड) ।

वुंदावण देखो विंदावण (हे १, १३१; प्राप्र; संखि ४; कुमा) ।

वुंद्र देखो वंद्र (हे १, ५३; कुमा १, ३८) ।

वुक देखो वुक = दे (सण) ।

वुकंत वि [व्युत्क्रान्त] १ अतिक्रान्त, व्यतीत, गुजरा हुआ; 'वीलीणं वुकंतं अइच्छिअं वीलिअं अइकंतं' (पाअ), 'वुकंतो बहुकालो तुह पयसेवं कुणंतस्स' (सुपा ५६१) । २ विध्वस्त, विनष्ट (राज) । ३ निष्क्रान्त, बाहर निकला हुआ (निद्र १६) । देखो वोकंत ।

वुकंति वी [व्युत्क्रान्ति] उत्पत्ति (राज) ।

वुकम पुं [व्युत्क्रम] १ वृद्धि, बड़ाव (सूअ २, ३, १) । २ उत्पत्ति (सूअ २, ३, १; २, ३, १७) ।

वुकस सक [व्युत् + कृप्] पीछे लौचना, वापस लौटना । वुकसाहि (आचा २, ३, १, ६) ।

वुकार देखो वुकार (सण) ।

वुकार सक [दे. वृद्धारय्] गर्जन करना । वुकारंति (राय १०१) ।

वुकारिय न [दे. वृद्धारित] गर्जना (स ५४८) ।

वुग्गह पुं [व्युद्ग्रह] १ कलह, झगड़ा, विग्रह, लड़ाई (ठा ५, १—पत्र ३००; वव १; पव २६८) । २ वाड़, डाका (उप-पु २४५) । ३ वहकाव (संघेव ५२) । ४ मिथ्यानिनिवेश, कदाग्रह (राज) ।

वुग्गहअ वि [व्युद्ग्राहक] कलह-कारक; 'नय वुग्गहिअं कहं कहिज्ज' (दस १०, १८) ।

वुग्गहिअ वि [व्युद्ग्रहिक] कलह-संबन्धी (दस १०, १०) ।

वुग्गाह सक [व्युद् + ग्राहय्] वहकाना, भ्रान्त-चित्त करना । वुग्गाहेमो (महा) । वक्क. वुग्गाहेमाण (णया १, १२—पत्र १७४; श्रौप) ।

वुग्गाहणा वी [व्युद्ग्राहणा] वहकाव (श्रौषमा २५) ।

वुग्गाहिअ वि [व्युद्ग्राहित] वहकामा हुआ, भ्रान्तचित्त किया हुआ (कस; चेइय ११७; सिरि १०८?) ।

वुच्चं देखो वय = वच् ।

वुच्चमाण वि [उच्यमान] जो कहा जाता हो वह (सूअ १, ६, ३१; भग; उप ५३० टी) ।

वुच्चा अ [उक्त्या] कह कर (सूअ २, २, ८१; पि ५८७) ।

वुच्छ देखो वच्छ = वृक्ष (नाट—मुच्छ १५४) ।

वुच्छं देखो वोच्छं (कम्म १, १) ।

वुच्छं देखो वोच्छिंद ।

वुच्छिण्ण देखो वुच्छिण (राज) ।

वुच्छिन्ति देखो वोच्छिन्ति (विसे २४०५) ।

वुच्छिन्न वि [व्युच्छिन्न, व्यवच्छिन्न] १ अपगत, हटा हुआ । २ विनष्ट (उव) । ३ न. लगातार चौदह दिनों का उपवास (संघेव ५८) ।

वुच्छेअ देखो वोच्छेअ (पव २७३; कम्म २, २२; सुपा २५४) ।

वुच्छेयण देखो वोच्छेयण (ठा ६—पत्र ३५८) ।

वुज्ज अक [जस्] डरना । वुज्जइ (प्राप्र) । देखो वोज्ज ।

वुज्जण न [दे] स्वगन, आच्छादन, ढकना (वर्मसं १०२१ टी; ११०२) ।

बुद्धमंत वि [उद्यमान] पानी के वेग से लौंचा जाता, वह जाता (पउम १०२, २४); 'गिरि-निष्करणोदगोहि बुद्धमंतो' (वे ८२)। देखो वह = वह ।

बुद्धमण देखो बुद्धण (धर्मसं १०२१)।

बुद्धममाण देखो बुद्धमंत (पउम ८३, ४)।

बुद्ध (अप) देखो वृद्ध = वृद्ध । बुद्ध (हे ४, २६२; कुमा) । संज्ञ. बुद्धेप्पि, बुद्धेप्पिणु (हे ४, ३६२)।

बुद्ध अक [व्युत् + स्था] उठना, लड़ा होना । बुद्ध (पि ३३७)।

बुद्ध वि [वृष्ट] १ बरसा हुआ (हे १, १३७; विपा २, १—पत्र १०८; कुमा १, ८५)।

२ न. वृष्टि (दस ८, ६)।

बुद्धि देखो विद्धि = वृष्टि (हे १, १३७; कुमा)। 'काय पुं [काय] बरसता जल-समूह (भग १४, २—पत्र ६३४; कप्प)।

बुद्धिय वि [व्युत्थित] जो उठ कर खड़ा हुआ हो वह (भवि)।

'बुद्ध देखो पुद्ध = पुद्ध; 'जंपद्ध कयंजलिबुद्धो' (पउम ६३, २२)।

बुद्ध अक [वृद्ध] बढ़ना (संज्ञि ३४)। बुद्धंति (भग ५, ८)।

बुद्ध सक [वर्धय] बढ़ाना । वृद्ध. बुद्धंत (द्र २३)।

बुद्ध वि [वृद्ध] १ जरा अबस्थावाला, बूढ़ा (औप; सुर ३, १०४; सुपा २२७; सम्मत्त १५८; प्रासू ११६; सण)। २ बड़ा, महान् (कुमा)। ३ वृद्धि-प्राप्त । ४ अनुभवो, कुशल, निपुण । ५ पंडित, जानकार (हे १, १३१; २, ४०; ६०)। ६ निभूत, शान्त, निविकार (ठा ८)। ७ पुं. तापस, संन्यासी (शाया १, १५—पत्र १६३; अणु २४)। ८ एक जैन मुनि का नाम (कप्प)।

'त्त, 'त्तण न [त्व] बुढ़ापा, जराबस्था (सुपा ३६०; २४२)। 'वाइ पुं [वादिन्] एक समय जैनाचार्य जो सुप्रसिद्ध कवि सिद्धसेन दिवाकर के गुरु थे (सम्मत्त १४०)।

'वाय पुं [वाद] किवदन्तो, कहावत, जनश्रुति (स २०७)। 'सावग पुं [श्रावक] ब्राह्मण (शाया १, १५—पत्र १६३; औप)।

'णुग वि [णुग] वृद्ध का अनुयायी (सं ३३)।

बुद्ध वि [दे] विनष्ट (राज)।

बुद्धि लो [वृद्धि] १ बढ़ाव, बढ़ना (आचा; भग, उवा; कुमा; सण)। २ अम्युदय, उन्नति।

३ समृद्धि, संपत्ति । ४ व्याकरण-प्रसिद्ध एकार आदि वर्णों की एक संज्ञा (सुपा १०३; हे १, १३१)। ५ समूह । ६ कलान्तर, सूद । ७ श्रोतवि-विशेष । ८ पुं. गन्धद्रव्य-विशेष (हे १, १३१)।

'कर वि [कर] वृद्धि-कतां (सुर १, १२६; द्र २४)।

'धम्मय वि [धर्मक] बढ़नेवाला, वर्धन-शील (आचा)। 'म वि [मत्] वृद्धिवाला (विचार ४६७)।

बुणण न [दे] बुनना (सम्मत्त १७३)।

बुणिय वि [दे] बुना हुआ; 'अ-बुणिया लड़ा' (कुप्र २२३)।

बुणण वि [दे] १ भोत, वस्तु (दे ७, ६४, विपा १, १—पत्र २४)। २ उद्विग्न (दे ७, ६४)।

बुत्त वि [उत्त] कथित (उवा; अनु ३; महा)।

बुत्त वि [उत्त] बोया हुआ (उव)।

बुत्त न [वृत्त] छन्द, कविता, पद्य (पिग)।

देखो वृत्त = वृत्त ।

'वुत्त देखो पुत्त (प्रमो २२)।

बुत्तंत पुं [वृत्तान्त] खबर, समाचार, हकीकत, बात (स्वप्न १५३; प्राप्र; हे १, १३१; स ३५)।

बुत्ति देखो वृत्ति = वृत्ति; 'जायामायावृत्तिण्यं' (सूत्र २, १, ५०; प्राकृ ८)।

बुत्थ वि [उपित] बसा हुआ, रहा हुआ (पाप्र; शाया १, ८—पत्र १४८; उव, वण ४३; उप पृ १२७; सुख २, १७, से ११, ८०; कुप्र १८७)।

बुद्ध देखो बुद्ध = वृद्ध (प्राकृ ८)।

बुदास पुं [व्युदास] निरास (विसे ३४७५)।

बुदि देखो वृद्धि = वृद्धि (प्राकृ ८)।

बुद्ध देखो बुद्ध = वृद्ध (पइ)।

बुद्धि देखो बुद्धि (ठा १०—पत्र ५२५; सम १७; संज्ञि ४)।

बुद्ध देखो बुद्धण (सुर ६, १२४; सुपा २५०; यमि १०; भवि; कुमा; हे ४, ४२१)।

बुद्धपंत वि [उद्यमान] बोया जाता, 'पिच्छद य मंगलसएहि वप्पिणं करिसगेहि बुद्धपंतं' (याक २५; पि ३३७)।

बुद्धपाय वि [व्युत् + पादय] व्युत्पन्न करना, होशियार करना । वृद्ध. बुद्धपाएमाण (शाया १, १२—पत्र १७४; औप)।

बुद्धन [दे] शेर, शिरः-स्वित (दे ७, ७४)।

बुद्धं देखो वह = वह ।

बुद्धममाण देखो बुद्धममाण (कुप्र २२३)।

'बुर देखो पुर (अचु १६)।

'बुरिस देखो पुरिस = पुरुष (अउम ६५, ४५)।

बुद्धह पुं [दे] अर्थ की एक उत्तम जाति (सम्मत्त २१६)।

बुसह देखो बसभ (चार ७; ना ४६०; ८२०; नाट—मुच्छ १०)।

बुसि लो [वृषि] मुनि का आसन । 'राइ, राइअ वि [राजिन्] संयमी, जितेन्द्रिय, व्यागो, साधु (निवृ १६)। देखो बुसि, बुसी ।

बुसि वि [वृषिन्] संबिग्न, साधु, संयमी, मुनि; 'बुसि संबिग्नो भणियो' (निवृ १६)।

बुसिम वि [वश्य] वश में आनेवाला, अवीन होनेवाला; 'निस्तारियं बुसिमं मन्नाणा' (निवृ १६)।

बुसी लो [वृषी] मुनि का आसन । 'म वि [मत्] संयमी, साधु, मुनि; 'एस वन्मे बुसीमओ' (सूत्र १, ८, १६; १, ११, १५; १, १५, ४; उत ५, १८; सुख ५, १८)।

देखो बुसि ।

बुस्सग्ग देखो विओसग्ग; 'सच्चित्ताणं पुप्फाइयाण दव्वाण कुणइ बुस्सग्गं' (उप १४२; संबोध ५१; ५२)।

बृद्ध देखो बुद्ध = वृद्ध (सुपा ५१०; ५२०)।

बृद्ध वि [व्यूद्ध] १ धारण किया हुआ, 'सोआपरिमट्टेण व बूढो तेणवि पिरंतं रोमंचो' (से १, ४२; वण २०; विचार २२६; खंदि ५२)। २ ढोया हुआ; भुण्णिवूढो सील-भरो विजयपसत्ता तरंति नो वोडु' (प्रवि १७; स १६२)। ३ बहा हुआ, वेग में खिंचा

गया (भक्त १२२) । ४ उपचित, पुष्ट (से ६, ५०) । ५ निःसृत, निकला हुआ; 'जम्मुहमहद्दहाम्रो दुवालसंगी महानई वृढा । ते गणहरकुलगिरिणी सन्ने वंदामि भावेण' (चेइय ४) ।

वृणक पुंन [दे] बालक, वच्चा (राज) ।

वृय वि [दे] बुना हुआ; 'जं न तपट्टा वृयं नय किरियं नेय गहियमन्नेहि' (सुपा ६४३) । देखो वुअ = (दे) ।

वृह पुंन [व्युह] १ युद्ध के लिए की जाती सैन्य की रचना-विशेष (पएह १, ३—पत्र ४४; श्रौप; स ६०३; कुमा) । २ समूह (सम १०६; कुप्र ५६) ।

वे देखो वइ = वै (प्राकृ ८०; राज) ।

वे अक [वि + इ] नष्ट होना । वेइ (विसे १७६४) ।

वे } सक [व्ये] संवरण करना । वेइ, वेअ } वेअइ, वेअए (पड) ।

वेअ सक [वेदय] १ अनुभव करना, भोगना । २ जानना । वेअइ, वेअए, वेअंति (सम्यक्त्वो ६; भग) । वक. वेअंत, वेअमाण, वेअमाण (सम्यक्त्वो ५; पउम ७५, ४५; सुपा २४३; णाया १, १—पत्र ६६; श्रौप; पंच ५, १३२; सुपा ३६६) । कवक. वेइज्जमाण (भग; पएह १, ३—पत्र ५५) । संक. वेयइत्ता (सुप्र १, ६, २७) । क. वेय. वेअव्व, वेइयव्व (ठा २, १—पत्र ४७; रयण २४; सुख ६, १; सुपा ६१४; महा) । देखो वेअ = (वेद्य), वेअणिज्ज, वेअणिय ।

वेअ अक [वि + एज्] विशेष काँपना । वेअइ (एंदि ४२ टी) । वक. वेअंत (ठा ७—पत्र ३८३) ।

वेअ अक [वेप्] काँपना । वक. वेअमाण (गा ३१२ अ) ।

वेअ पुं [वेद] १ शास्त्र-विशेष, ऋग्वेद आदि ग्रंथ (विपा १, ५ टी—पत्र ६०; पात्र; उव) । २ कर्म-विशेष, मोहनीय कर्म का एक भेद, जिसके उदय से मैथुन की इच्छा होती है (कम्म १, २२; उप पृ ३५३) । ३ आचारंग आदि जैन ग्रंथ (आचा १, ३, १, २) । ४ विज्ञ, जानकार (भग) । ५ वि. १०३

[वत्] वेदों का जानकार (आचा १, ३, १, २) । ५ वि, ५ विड वि [विद्] वही अर्थ (पि ४१३; आ २३) । ५ वत्त न [व्यक्त] चैत्य-विशेष (आचा २, १५, ३५) । ५ वत्त न [वर्त] देखो वत्त (आचा २, १५, ५) ।

वेअ न [वेद्य] कर्म-विशेष, सुख तथा दुःख का कारण-भूत कर्म (कम्म १, ३) ।

वेअ पुं [वेग] शीघ्र गति, दौड़, तेजी (पात्र; से ५, ४३; कुमा; महा; पउम ६३, ३६) । २ प्रवाह । ३ रेतस् । ४ मूत्र आदि निःसारण-यन्त्र । ५ संस्कार-विशेष (प्राकृ ४१) । देखो वेग ।

वेअंत पुं [वेदान्त] दर्शन-विशेष, उपनिषद् का विचार करनेवाला दर्शन (अच्छु १) ।

वेअग वि [वेदक] १ भोगनेवाला, अनुभव करनेवाला (सम्यक्त्वो १२; संबोध ३३; श्रावक ३०६) । २ न. सम्यक्त्व का एक भेद (कम्म ३, १६) । ३ वि. सम्यक्त्व-विशेष वाला जीव (कम्म ४, १३; २२) । छहिय वि [छिन्नवेदक] जिसका पुरुष-चिह्न आदि काटा गया हो वह (सुप्र २, २, ६३) ।

वेअच्छ न [वैकक्ष] १ उत्तरासंग, छाती में यज्ञोपवीत की तरह पहना जाता वस्त्र, माला आदि । २ कन्ध-विशेष, मकंठ-वन्ध । ३ कन्ध के नीचे लटकना (णाया १, ८—पत्र १३३) ।

वेअड सक [खच्] जड़ना । वेअडइ (हे ४, ८६; पड) ।

वेअडिअ वि [खचित] जड़ा हुआ, जड़ाऊ (कुमा; पात्र; भवि) ।

वेअडिअ वि [दे] प्रखुप्त, फिर से बोया हुआ (दे ७, ७७) ।

वेअडिअ पुं [दे. वैकटिक] मोती वेधनेवाला शिल्पी, जौहरी (कप्पू) ।

वेअडि देखो विअडि (श्रौप) ।

वेअड्ड न [दे] भल्लातक, भिलावाँ (दे ७, ६६) ।

वेअड्ड पुं [वैताड्य] पर्वत-विशेष (सुर ६, १७; सुपा ६२६; महा; भवि) ।

वेअड्ड न [वैदग्ध्य] विदग्धता, विचक्षणता (सुपा ६२६) ।

वेअण न [वेतन] मजूरी का मूल्य, तनखाह (पात्र; विपा १, ३—पत्र ४२; उप पृ ३६८) ।

वेअण न [वेपत्त] १ कम्प, काँपना (चेइय ४३५; नाट—उत्तर ६१) । २ वि. काँपनेवाला (चेइय ४३५) ।

वेअण न [वेदन] अनुभव, भोग (आचा; कम्म २, १३) ।

वेअणा देखो विअणा (उवा; हे १; १४३; प्रासू १०४; १३३; १७४) ।

वेअणिज्ज } वि [वेदनीय] १ भोगने योग्य ।  
वेअणिय } २ न. कर्म-विशेष, सुख-दुःख आदि का कारण-भूत कर्म (प्राकृ; ठा २, ४; कप्प; कम्म १, १२) ।

वेअय देखो वेअग (विसे ५२८) ।

वेअरणी स्त्री [वैतरणी] १ नरक-नदी (कुप्र ४३२; उव) । २ परमार्थमिक देवों की एक जाति, जो वैतरणी की विकुर्वणा करके उसमें नरक-जीवों को डालता है (सम २६) । ३ विद्या-विशेष (आवम) ।

वेअल्ल देखो वेइल्ल = विचकिल; 'विमल्लफुल्ल-नियरच्छलेण हसइव्व गिम्हरिऊ' (धर्मवि २०) ।

वेअल्ल वि [दे] १ मुटु, कोमल (दे ७, ७५) । २ न. असामर्थ्य (दे ७, ७५; पात्र) ।

वेअल्ल न [वैकल्य] विकलता, व्याकुलता (गउड) ।

वेअव्व देखो वेअ = वेदय ।

वेअस पुं [वेतस] वृक्ष-विशेष, वेंत का पेड़ (हे १, २०७; पड; गा ६४५) ।

वेआगरण वि [वैयाकरण] व्याकरण-संबंधी, संदेह-निराकरण से सम्बन्ध रखनेवाला (पंचभा) ।

वेआर सक [दे] ठगना, प्रतारणा करना । वेआरइ (भवि) । कर्म. वेआरिज्जि (गा ६०६) । हेक. वेआरिउं (गा २८६; वज्जा ११४) ।

वेआरणिय वि [वैदारणिक] विदारण-सम्बन्धी, विदारण से उत्पन्न (ठा २, १—पत्र ४०) ।

वेआरणिय वि [दे] प्रतारण-सम्बन्धी, ठगने से उत्पन्न (ठा २, १—पत्र ४०)।  
 वेआरणिय वि [वैचारणिक] विचार-संबन्धी (ठा २, १—पत्र ४०)।  
 वेआरिअ वि [दे] १ प्रतारित, ठगा हुआ (दे ७, ६५; पत्र १४, ४६; सुपा १५२)। २ पुं. केश, बाल (दे ७, ६५)।  
 वेआल पुं [वेताल] १ भूत-विशेष, विकृत पिशाच, प्रेत (परह १, ३—पत्र ४६; गउड; महा; पिंग)। २ छन्द-विशेष (पिंग)।  
 वेआल वि [दे] १ ग्रन्था। २ पुं. ग्रंथकार (दे ७, ६५)।  
 वेआलग वि [विदारक] विदारण-कर्ता (सूत्रनि ३६)।  
 वेआलण न [विदारण] फाड़ना, चीरना (सूत्रनि ३६)।  
 वेआलि पुं [वैतालिन्] बन्दी, स्तुति-पाठक (उप ७२८ टी)।  
 वेआलिअ देखो वइआलिअ (पात्र; हे १, १५२; चेइय ७४६)।  
 वेआलिय वि [वैक्रिय] विक्रिया से उत्पन्न (सूत्र १, ५, २, १७)।  
 वेआलिय वि [वैकालिक] विकाल-सम्बन्धी, अपराह में बना हुआ (दसनि १, ६; १५)।  
 वेआलिय न [विदारक] विदारण-क्रिया (सूत्रनि ३६)।  
 वेआलिय देखो वइआलीअ (सूत्रनि ३८)।  
 वेआलिया स्त्री [वैताली] बीणा-विशेष (जीव ३)।  
 वेआली स्त्री [वैताली] १ विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से अचेतन काष्ठ भी उठ खड़ा होता है—चेतन की तरह क्रिया करता है (सूत्र २, २, २७)। २ नगरी-विशेष (राया १, १६—पत्र २१७)।  
 वेइ स्त्री [वेदि] परिष्कृत भूमि-विशेष, चौतरा (कुमा; महा)।  
 वेइ वि [वेदिन्] १ जाननेवाला (चेइय ११६; गउड)। २ अनुभव करनेवाला (पंच ५, ११६)।  
 वेइअ वि [वेदित] १ अनुभूत (भग)। २ ज्ञात, जाना हुआ (दस ४, १; पत्र ६६, ३)।

वेइअ देखो वेविअ = वेपित (गा ३६२ अ)।  
 वेइअ वि [वेदिक] १ वेदाधिक, वेद-संबन्धी (ठा ३, ३—पत्र १५१)। २ वेदों का जानकार (दसनि ४, ३५)।  
 वेइअ वि [वेगित] वेलावाला, धंग-युक्त (राया १, १—पत्र २६)।  
 वेइअ वि [व्येजित] १ कम्पित, कांपा हुआ (भग १, १ टी—पत्र १८)। २ कंपाया हुआ (राय ७४)।  
 वेइआ स्त्री [दे] पनीहारी, पानी डोनेवाली स्त्री (दे ७, ७६)।  
 वेइआ स्त्री [वेदिका] १ परिष्कृत भूमि-विशेष, चौतरा (भग; कुमा; महा)। २ अंगुलि-मुद्रा, अंगूठी (दे ७, ७६ टी)। ३ वर्जनीय प्रतिबन्धन का एक भेद, प्रत्युपेक्षा का एक दोष (उत्त २६, २६; मुख २६, २६; शोधभा १६३)।  
 वेइज्ज मक [वि + एज्] कपना। वक्र-वेइज्जमाण (भग १, १ टी—पत्र १८)।  
 वेइज्जमाण देखो वेअ = वेदय्।  
 वेइइ वि [दे] १ ऊंचा किया हुआ। २ विसंस्थुल। ३ आविद्ध। ४ शिथिल (दे ७, ६५)।  
 वेइइ देखो विअइइ (हे १, १६६; २, ६८; कुमा)।  
 वेउंठ देखो वेकुंठ (गउड)।  
 वेउट्टिया स्त्री [दे] पुनः पुनः, फिर-फिर (कप)।  
 वेउउय देखो विउउय = वि + ऊ, कुव्। संक-वेउउयऊण (सुपा ४२)।  
 वेउउय वि [वैक्रिय] १ विकृत, विकार-प्राप्त (विसे २५७६ टी)। २ देखो विउउय = वैक्रिय (कम्म ३, १६)। लट्टि स्त्री [लट्टिय] शक्ति-विशेष, वैक्रिय शरीर उत्पन्न करने का सामर्थ्य (पत्र ७०, २६)।  
 वेउउयि देखो विउउयि (परह २, १—पत्र ६६; कप; शोधभा ५७)।  
 वेउउयिअ देखो विउउयिअ = विकृत, विकु-वित; वेउउयिअ अनुइज्जंजालं अइचिकणं फासेण (स ७६२; सुपा ४७)।  
 वेउउयिअ वि [वैक्रिय, वैक्रियिक, वैकुविक] १ शरीर-विशेष, अनेक स्वल्पों और क्रियाओं

को करने में नमर्ष शरीर (सम १५१; भग ६८)। २ वैक्रिय शरीर बनाने की शक्तिवाला (सम १०३; पय—गाया ६)। ३ विकुर्वणा से बनाया हुआ; 'विभगिरित्तनोअयं एयं वेउउयिअं च मह भवणं' (सुपा १७८)। ४ वैक्रिय शरीरवाला (विसे ३७५)। ५ वैक्रिय शरीर से संबन्ध रखनेवाला (भग)। ६ विभू-पित (भग १८, ५—पत्र ७४६)। लट्टिअ वि [लट्टियक] वैक्रिय शरीर उत्पन्न करने की शक्तिवाला (भग)। समुग्घाय पुं [समुग्घात] वैक्रिय शरीर बनाने के लिए आत्म-प्रदेशों को बाहर निकालना (अंत)।  
 वेउउयिअ स्त्री [दे] पुनः पुनः, फिर-फिर (कप)।  
 वेकंड पुं [वेकूट] दक्षिण देश में स्थित एक पर्वत (अच्छु १)। णाह पुं [नाथ] विष्णु की वेकंडादि पर स्थित मूर्ति (अच्छु १)।  
 वेगी स्त्री [दे] वृत्तिवाली, बाढ़वाली (दे ७, ४३)।  
 वेज्जण देखो वंजण (प्राक ३१)।  
 वेउ देखो विउ = वृत्त (गा ३५६; हे १, १३६; २, ३१; कुमा; प्राक ४)।  
 वेउल देखो विउल (शोध ४२४)।  
 वेउली देखो विउलिआ; 'तमो तेण तत्त (करिणो) पुरमो वेउलीकाऊण पस्सित्त-मुत्तरीयं' (महा)।  
 वेउिआ देखो विउिया (शोध २०३; शोधभा ७६; उप १४२ टी; वव १)।  
 वेउ पुं [वेतण्ड] हाथी, हस्ती (प्राक ३०)। देखो वेयंड।  
 वेउसुरा स्त्री [दे] कलुप मदिरा (दे ७, ७८)।  
 वेउि पुं [दे] पशु (दे ७, ७४)।  
 वेउिअ वि [दे] वेउिअ, लपेटा हुआ (दे ७, ७६; महा)।  
 वेभल देखो विभल (परह १, ३—पत्र ४५; पत्र ५, १६२)।  
 वेकखल देखो वेअच्छ; 'वेकखलउत्तरीया' (कुमा)।  
 वेकच्छिया } देखो वेगच्छिया (शोधभा  
 वेकच्छी } ३१८; शोध ६७७)।  
 वेकिडिअ न [दे] रोमन्थ, चवी हुई चीज को फिर से चवाना (दे ७, ८२)।

वेकुंठ पुं [वेकुण्ठ] १ विष्णु, नारायण । २ इन्द्र, देवाधीश । ३ गरुड पक्षी । ४ अर्जक वृक्ष, सफेद बवंरी का गाछ । ५ लोक-विशेष, विष्णु का धाम (हे १, १६६) । ६ पुंन. मथुरा का एक वैष्णव तीर्थ (ती ७) ।

वेग देखो वेअ = वेग (उवा; कप्प; कुमा) ।  
वेई व्ही [वेवती] एक नदी का नाम (ती १५) ।  
वेंत वि [वेवन्] वेगवाला (सुर २, १६७) ।

वेगच्छ देखो वेअच्छ (उवा) ।

वेगच्छिया } व्ही [वैकक्षिका, °क्षा] कक्षा  
वेगच्छी } के पास पहना जाता वस्त्र,  
उत्तरासंग (पव ६२); 'कयतिलओ वेगच्छ  
आणाववहरपणह्वं' (संघोष ६) ।

वेगड व्हीन [दे] पीत-विशेष, एक तरह का जहाज; 'चटसट्टी वेगडाए' (सिरि ३२२) ।

वेगर पुं [दे] ब्राह्म, लोंग आदि से मिश्रित चीनी आदि (उर ५, ६) ।

वेगुन्न देखो वइगुण (धर्मसं ८८५; सुपा २६०) ।

वेग देखो विअग (प्राक् ३०) ।

वेग देखो वेग (भवि) ।

वेगल वि [दे] दूर-वर्ती; गुजराती में 'वेगळु' (हे ४, ३७०) ।

वेचित्त देखो वइचित्त (भास ३०; अज्भ ४६) ।

वेच्च देखो विच्च = वि + अच्। वेच्चइ (हे ४, ४१६) ।

वेच्छ देखो विअ = विद् ।

वेच्छा देखो वेगच्छिया । सुत्त न [°सूत्र] उपवीत की तरह पहनी जाती सांकली (भग ६, ३३ टी—४७७; राय) ।

वेजयंत पुंन [वेजयन्त] १ एक अनुत्तर देव-विमान (सम ५६; औप; अनु) । २-७ जंबू-द्वीप, लवण समुद्र, घातकी खण्ड, कालोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप तथा पुष्करोद समुद्र का दक्षिण द्वार (ठा ४, २—पत्र २२५; जीव ३, २—पत्र २६०; ठा ४: २—पत्र २२६; जीव ३, २—पत्र ३२७; ३२६; ३३१; ३४७) । ८-१३ पुं. जंबूद्वीप, लवण समुद्र आदि के दक्षिण द्वारों के अघिष्ठाता देव (ठा

४, २—पत्र २२५; जीव ३, २—पत्र २६०; ठा ४, २—पत्र २२६; जीव ३, २—पत्र ३२७; ३२६; ३३१; ३४७) । १४ एक अनुत्तर देवविमान का निवासी देव (सम ५६) । १५ जंबू-मन्दर के उत्तर रुचक पर्वत का एक शिखर; 'विजए य वि(? वे) जयंते' (ठा ८—पत्र ४३६) । १६ वि. प्रधान, श्रेष्ठ (सूत्र १, ६, २०) ।

वेजयंती व्ही [वेजयन्ती] १ वज्रा; पताका (सम १३७; सूत्र १, ६, १०; सुर १, ७०; कुमा) । २ पृष्ठ बलदेव की माता का नाम (सम १५२) । ३ अंगारक आदि महाग्रहों की एक-एक अग्रमहिषी का नाम (ठा ४, १—पत्र २०४) । ४ पूर्वं रुचक पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६) । ५ विजय-विशेष की राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०) । ६ एक विद्याधर-नगरी (सुर ५, २०४) । ७ रामचन्द्रजी की एक सभा (पउम ८०, ३) । ८ भगवान् पद्मप्रभ की वीक्षा-शिविका (सम १५१) । ९ उत्तर अंजनगिरि की दक्षिण दिशा में स्थित एक पुष्करिणी (ठा ४, २—पत्र २३०) । १० पक्ष की आठवीं रात्रि का नाम; 'विजया य विजयंता (? वेजयंती)' (सुज १०, १४) । ११ भगवान् कुन्धुनाथ की वीक्षा-शिविका (विचार १२६) ।

वेज्ज वि [वेद्य] भोगने योग्य, अनुभव करने योग्य (संघोष ३३) ।

वेज्ज पुं [वेद्य] १ चिकित्सक, हकीम (गा २३७; उव) । २ वृक्ष-विशेष । ३ वि. परिष्ठत, विद्वान् (हे १, १४८; २, २४) । ४ सत्य न [°शास्त्र] चिकित्सा-शास्त्र (स १७) ।

वेज्जग } न [वेद्यक] १ चिकित्सा-शास्त्र (श्रीप  
वेज्जय } ६२२ टी; स ७११) । २ वैद्य-संवेदी क्रिया, वैद्य-कर्म (अणु २३४; कुप्र १८१) ।

वेज्जवि [वेध्य] वीधने योग्य (नाट—साहित्य १५८) ।

वेड्डण देखो वेडग (नाट—मालती ११६) ।

वेड्डणग पुं [वेद्यनक] १ सिर पर बांधी जाती एक तरह की पगड़ी । २ कान का एक आभूषण (राज) ।

वेड्डया देखो विट्टा (सुर १६, १७५) ।

वेड्डि देखो विट्टि; 'रायवेड्डि व मन्त्रंता' (उत्त २७, १३; प्राक् ५) ।

वेड्डिद (शौ) देखो वेड्डिअ (नाट—मृच्छ ६२) ।

वेड [दे] देखो वेड (दे ६, ६५; कुमा) ।

वेडइअ पुं [दे] वाणिजक, व्यापारी (दे ७, ७८) ।

वेडंयग देखो विडंयग; 'जह वेडंयगलिगे' (संघोष १२) ।

वेडस पुं [वेतस] वृक्ष-विशेष, वेंत का गाछ (पात्र; सम १५२; कप्प) ।

वेडिअ पुं [दे] मणिकार, जौहरी (दे ७, ७७) ।

वेडिकिअ वि [दे] संकट, सकरा, कमचौड़ा (दे ७, ७८) ।

वेडिस देखो वेडस (प्राप्र; हे १, ४६; २०७; कुमा; गा ७६०) ।

वेडुंयक } वि [दे] नृपादि कुल में उत्पन्न  
वेडुंयग } (आव० परि नि० गा० ७६  
आव० दीपिका भा० २ पत्र, ७०, २) ।

वेडुज्ज } देखो वेरुअ (हि २, १३३;  
वेडुरिअ } पात्र; नाट—मृच्छ १३६) ।

वेडुअ वि [दे] गवित, अभिमानी (दे ७, ४१) ।

वेडुअ देखो वेड = वेण्ट । वेडुअइ (प्राप्र) ।

वेडुअय पुं [वेद्यक] छन्द-विशेष (अजि ६) ।

वेड सक [वेट्] लपटना । वेडइ, वेडेइ (हे ४, २२१; उवा) । कर्म. वेडिज्जइ (हे ४, २२१) । वक्र. वेडंत, वेडेमाण (पउम ४९, २१; णाया १, ६) । कवक. वेडिज्ज-माण (सुपा ६४) । संक्र. वेडित्ता, वेडेत्ता, वेडिउं, वेडेउं (पि ३०४; महा) । प्रयो. वेडावेइ (पि ३०४) ।

वेड पुं [वेद्य] १ छन्द-विशेष (सम १०६; अणु २३३; णंदि २०६) । २ वेण्ट, लपटन (गा ६६; २२१; से ६; १३) । ३ एक वस्तु-विषयक वाक्य-समूह, वर्णन-ग्रन्थ (णाय १, १६—पत्र २१८; १, १७—पत्र २२८; अनु) ।

वेड देखो पीड (गउड) ।

वेडण न [वेडण] लपेटना (गे १, ६०; ६, ४३; १२, ६५; गा ५६३; धर्मसं ४६७)।

वेडिअ वि [वेडिअ] लपेटा हुआ (ज्व; पात्र; सुर २, २३८)।

वेडिम वि [वेडिम] ? वेडण से बना हुआ (पएह २, ५—पत्र १४८; राज)। २ पुंल्री. वाद्य-विशेष (पएह २, ५—पत्र १४८; राज)।

वेण पुं [दे] नदी का विपम घाट (दे ७, ७४)।

वेण (अप) देखो वयण = वचन (हे ४, ३२६)।

वेणइअ न [वेणइअ] ? विनय, नम्रता (ठा ५, २—पत्र ३३१; दस. ६, १, १२; सट्टि १०६ टी)। २ मिय्यात्व-विशेष, सभी देवों और धर्मों को सत्य मानना (संबोध ५२)। ३ वि. विनय-संबन्धी (सम १०६; भग)। ४ विनय को ही प्रधान माननेवाला, विनय-वादी (सूत्र १, ६, २७)। वाद पुं [वाद] विनय को ही मुख्य माननेवाला दर्शन (धर्मसं ६६५)।

वेणइगी } ली [वैनधिकी] विनय से प्राप्त  
वेणइया } होनेवाली बुद्धि (उप पृ ३४०; छाया १, १—पत्र ११)।

वेणइया ली [वैनिकिया] लिपि-विशेष (सम ३५; परण १—पत्र ६२)

वेणा ली [वेणा] महर्षि स्थूलभद्र की एक भगिनी (कल्प; पडि)।

वेणि ली [वेणी] ? एक प्रकार की केश-रचना, बालों की सूधी हुई चोटी (उवा)। २ वाद्य-विशेष (सण)। ३ गंगा और यमुना का संगम-स्थान (राज)। वच्छराय पुं [वत्सराज] एक राजा (कुप ४४०)।

वेणिअ न [दे] वचनीय, लोकापवाद (दे ७, ७५; पड)।

वेणी ली [वेणी] देखो वेणि (सं १, ३६; गा २७३; कपु)।

वेणु पुं [वेणु] ? वंश, वांस (पात्र; कुमा; पड)। २ एक राजा (कुमा)। ३ वाद्य-विशेष, बंसी (हे १, २०३)। दालि पुं [दालि] एक इन्द्र, सुपर्णकुमार देवों का उत्तरदिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८४;

इन्द्र)। देव पुं [देव] ? सुपर्णकुमार-नामक देव-जाति का दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८४)। २ देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ६७; ७६)। ३ गण्ड पत्नी (सूत्र १, ६, २२)। वाणुजाय पुं [वाणुजाय] गणितशास्त्र-प्रसिद्ध दस योनों में द्वितीय योग, जिसमें चन्द्र, सूर्य और नक्षत्र संशाकार से व्यवस्थान करते हैं (सुत्र १२—पत्र २३३)।

वेणुणास } पुं [दे] अमर, भौरा (दे ७,  
वेणुसाअ } ७८; पड)।

वेण्व वि [दे] आक्रान्त (पड)।

वेण्णा ली [वेन्ना] नदी-विशेष। यड न [तट] नगर-विशेष (पउम ४८, ६३; महा)।

वेण्हु देखो विण्हु (संलि ३; प्राक ५)।

वेताली ली [दे] ? तट, किनारा; 'जन्म नावा पुव्ववेतालीउ दाहिएवेतालि जलपहेएणं गच्छति' (परण १६—पत्र ४८०)। २ गली (आव० वृ० पत्र ३५५)।

वेत्त न [दे] स्वच्छ वस्त्र (दे ७, ७५)।

वेत्त पुं [वेत्त] वृक्ष-विशेष, वेंत का गाछ (परण १—पत्र ३३; विपा १, ६—पत्र ६६)। असण न [असन] वेंत का बना हुआ आसन (पउम ६६, १४)।

वेत्तव्व वि [वेत्तव्व] जानने योग्य (प्राप्र)।

वेत्तिअ पुं [वैत्रिक] द्वाखाल, चपरासी (सुपा ७३)।

वेद देखो वेअ = वेद। वेदेइ, वेदति, वेदंति (भग; सूत्र १, ७, ४; ठा २, ४—पत्र १००), वेदेज (धर्मसं १६६)। भूका, वेदंनु (ठा २, ४; भग)। भवि: वेदिस्संति (ठा २, ४; भग)। कवक. वेदंजमाण (ठा १०—पत्र ४७२)।

वेद देखो वेअ = वेद (पएह १, २—पत्र ४०; धर्मसं ८६२)।

वेदंत देखो वेअंत (धर्मसं ८६३)।

वेदक } देखो वेअग (पएह १, २—पत्र  
वेदग } २८, धर्मसं १६६)।

वेदणा देखो विअणा (भग; स्वप्न ८०; नाट—मालवि १४)।

वेदन्नी ली [वेदनी] प्रद्युम्न कुमार की एक स्त्री का नाम (अंत १४)।

वेदस (शो) देवों वेदिस (प्राक ८३; नाट—शकु २८)।

वेदि देवों वेइ = वेदि (पउम ११, ७३)।

वेदिग पुं [वादिग] एक अन्य मनुष्य-जाति, 'अंबट्टा य कलंदा य

वेदेहा वेदिगातिता (? प्र्या)।

हरिता सुत्तुया वेव

लपेता इत्थजाइयो ॥

(ठा ६—पत्र ३५८)।

वेदिय देखो वेइअ = वेदित (भग)।

वेदिस न [वेदिश] विदिया की तरफ का नगर (अणु १४६)।

वेदुलिय देखो वेरुलिय (वेड)।

वेदूणा ली [दे] तत्रा, शरम (दे ७, ६५)।

वेदेसिय देखो वइदेसिय (राज)।

वेदेह पुं [वेदेह] एक अन्य मनुष्य-जाति (ठा ६—पत्र ३५८)। देखो वइदेह।

वेदेहि पुं [विदेहिन्] विदेह देश का राजा (उत्त ६, ६२)।

वेधम्म देखो वइधम्म (धर्मसं १८५)।

वेधव्व देखो वेहव्व (मोह ६६)।

वेन्ना देखो वेण्णा (उप पृ ११५)।

वेप्प वि [दे] भूत आदि से गृहीत, पागल (दे ७, ७४)।

वेप्पुअ न [दे] ? शिशुवन, वचपन। २ वि. भूत-गृहीत, भूताविष्ट (दे ७, ७६)।

वेफल्ल न [वैफल्य] निष्फलता (विसे ४१६; धर्मसं २२; अज्ज १३३)।

वेठमल वि [विह्वल] व्याकुल (प्राप्र)।

वेठमार } पुं [वैभार] पर्वत-विशेष, राजगृही  
वैभार } के समीप का एक पहाड़ (छाया १, १—पत्र ३३; सिरि ४)।

वेम देखो वेमय। वेमइ (प्राक ७४)।

वेम पुं [वेमन्] तनुवाय का एक उपकरण (विसे २१००)।

वेमइअ वि [भग्न] भांगा हुआ (कुमा ६, ६८)।

वेमणस्स न [वैमन्तय] ? मनमुदाव, भीतर की द्वेष (ज्व)। २ वैन्य, वीनता (पएह १, १—पत्र ५)।

वेमय सक [ भञ्ज ] भांगना, तोड़ना ।  
वेमयइ (हे ४, १०६; पङ्) ।

वेमाउथ } वि [ वैमानिक ] विमाता की  
वेमाउग } संतान (सम्पत्त १७१; मोह  
८८) ।

वेमाणि पुंजी [ विमानिन ] विमान-वासी  
देवता, एक उत्तम देव-जाति (दे २) । स्त्री.  
णिणी (पण १७—पत्र ५००; पंचा २,  
१८) ।

वेमाणिअ पुं [ वैमानिक ] एक उत्तम देव-  
जाति, विमानवासी देवता (भग; औप; पणह  
१, ५—पत्र ६३; जी २४) ;

वेमाया स्त्री [ विमात्रा ] अनियत परिमाण  
(भग १, १० टी) ।

वेमि कि [ वच्चि ] मैं कहता हूँ (चंड) ।

वेयंड पुं [ वेतण्ड ] हस्ती, हाथी (स ६३०;  
७३५) । देखो वेंड ।

वेयावच्च } न [ वैयावृत्त्य, वैयापृत्य ]  
वेयावडिय } सेवा; शुभ्रपा (उव; कस; णाया  
१, ५; औप; ओषमा ३२१; आचा; णाया  
१, १—पत्र ७५; धर्मसं ६६५, श्रु ५३) ।

वेर न [ वैर ] दुश्मनाई, शत्रुता (दे १, १५२;  
अंत १२; प्रासू १२३) ।

वेर न [ द्वार ] दरवाजा (पङ्) ।

वेरग न [ वैराग्य ] विरागता, उदासीनता  
(उव; रयण ३०; सुपा १७३; प्रासू ११६) ।

वेरगिअ वि [ वैराग्यिक ] वैराग्य-युक्त,  
विरागी (उव; स १३५) ।

वेरज्ज न [ वैराज्य ] १ वैर-राज्य, विरुद्ध  
राज्य (सुत्त २, ३५; कस) । २ जहाँ पर  
राजा विद्यमान न हो वह राज्य । ३ जहाँ  
पर प्रधान आदि राजा से विरक्त रहते हैं  
वह राज्य (कस; बृह ?) ।

वेरत्तिय वि [ वैरात्रिक ] रात्रि के तृतीय पहर  
का समय (उत्त २६, २०; ओष ६६२) ।

वेरमण न [ विरमण ] विराम, निवृत्ति (सम  
१०; भग; उवा) ।

वेराड पुं [ वैराट ] भारतीय देश-विशेष, अल-  
वर तथा उसके चारों ओर का प्रदेश (भवि) ।

वेराय (अप) पुं [ विराग ] वैराग्य, उदासीनता  
(भवि) ।

वेरि } देखो वइरि (गडड; कुमा; पि  
वेरिअ } ६१) ।

वेरिज्ज वि [ दे ] १ असहाय, एकाकी । २  
न. सहायता, मदद (दे ७, ७६) ।

वेरुलिअ पुंन [ वेरुर्थ ] १ रत्न की एक जाति,  
'मुचिरं पि अञ्जमाणो वेरुलिओ काचमणीअ  
उम्मीसो' (प्रासू ३२; पात्र), 'वेरुलिअ' (हे  
२, १३३, कुमा) । २ विमानावास-विशेष  
(देवेन्द्र १३२) । ३ शक्र आदि इन्द्रों का एक  
आभाव्य विमान (देवेन्द्र २६३) । ४ महा-  
हिमवत पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३—  
पत्र ७०; ठा ८—पत्र ४३६) । ५ रुचक  
पर्वत का एक शिखर (ठा ८—पत्र ४३६) ।

६ वि. वैह्वयं रत्नवाला (जीव ३, ४; राय) ।  
७ मय वि [ मय ] वैह्वयं रत्नों का बना हुआ  
(पि ७०) ।

वेरोयण देखो वइरोअण = वैरोचन (णाया  
२, १—पत्र २४७) ।

वेल न [ दे ] दन्त-मांस, दाँत के मूल का मांस  
(दे ७, ७४) ।

वेलंधर पुं [ वेलंधर ] एक देव-जाति, नाग-  
राज-विशेष (सम ३३) । २ पर्वत-विशेष ।  
३ न. नगर-विशेष (पउम ५४, ३६) ।

वेलंधर पुं [ वेलंधर ] वेलंधर-संबन्धी (पउम  
५५, १७) ।

वेलंघ पुं [ वेलंघ ] १ वायुकुमार नामक देवों  
के दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र  
८५; इक) । २ पाताल-कलश का अघिष्ठाता  
देव-विशेष (ठा ४, १—पत्र १६८; ४, २—  
पत्र २२६) ।

वेलंघ पुं [ दे. विडम्ब ] १ विडम्बना (दे  
७, ७५; गडड) । २ वि. पिडम्बना-कारक  
(पणह २, २—पत्र ११४) ।

वेलंघ पुं [ विडम्बक ] १ विदूषक, मसखरा  
(औप; णाया १, १ टी—पत्र २; कप्य) ।  
२ वि. विडम्बना करनेवाला (पुष्फ २२६) ।

वेलंख न [ वेलंख ] लज्जा, शरम (गडड) ।

वेलणय न [ दे. व्रीडनक ] १ लज्जा, शरम  
(दे ७, ६५ टी) २ पुं. साहित्य-प्रसिद्ध रस-  
विशेष, लज्जा-जनक वस्तु के दर्शन आदि से  
उत्पन्न होनेवाला एक रस (आणु १३५) ।

वेलय सक [ उपा + लभ् ] १ उपात्म  
देना, उलाहना देना । २ कपाना । ३ व्याकुल  
करना । ४ व्यावृत्त करना, हटाना । वेलवइ  
(हे ४, १५६; पङ्) । वक्क. वेलवंत (से २,  
८) । कवक. वेलविजंत (से १०, ६८) ।  
क. वेलवणिज्ज (कुमा) ।

वेलय सक [ वच्च ] १ ठगना २ पीड़ा  
करना । वेलवइ (हे ४, ६३) । कर्म. वेल-  
विज्जति (सुपा ४८२; गडड) ।

वेलविअ वि [ वच्चित ] १ प्रतारित, ठगा  
हुआ (पात्र; वज्जा १५२; विवे ७७; वै  
२६) । २ पीड़ित, हैरान किया हुआ (वा  
११) ।

वेलो स्त्री [ दे ] दन्त-मांस, दाँत के मूल का  
मांस (दे ७, ७४) ।

वेलो स्त्री [ वेलो ] १ समय, अवसर, काल  
(पात्र; कप्य) । २ ज्वार, समुद्र के पानी की  
वृद्धि (पणह १, ३—पत्र ५५) । ३ समुद्र  
का किनारा (से १, ६२; औप; गडड) । ४  
मर्यादा (सूत्र १, ६, २६) । ५ वार, दफा  
(पंचा १२, २६) । ६ उल न [ कुल ] वन्दर,  
जहाजों के ठहरने का स्थान (सुर १३, ३०;  
उप ५६७ टी) । ७ वासि पुं [ वासिन् ]  
समुद्र-तट के समीप रहनेवाला वानप्रस्थ  
(औप) ।

वेलोइअ वि [ दे ] मूड, कोमल । २ दीन,  
गरीब (दे ७, ६६) ।

वेलोव (अप) सक [ वि + लभ्य ] देरी  
करना, विलम्ब करना । वेलोवसि (पिंग) ।

वेलिइ वि [ वेलोवत् ] वेलो-युक्त (कुमा) ।

वेली स्त्री [ दे ] १ लता-विशेष, निद्राकरी लता  
(दे ७, ३४) । २ घर के चार कोणों में  
रखा जाता छोटा स्तम्भ (पत्र १३३) ।

वेलु देखो वेणु (हे १, ४; २०३) ।

वेलु पुं [ दे ] १ चोर, तस्कर । २ मुसल (दे  
७, ६४) ।

वेलुं क वि [ दे ] विष्प, लराव, कुत्सित (दे  
७, ६३) ।

वेलुग पुंन [ वेणुक ] १ वेल का गाछ । २  
वेलुय } वेल का फल (आचा २, १, ८,  
१४) । ३ वंश, वंस; वेलुयाणि तणाणि  
यं (पण १—पत्र ४३; पि २४३) । ४



वांसकरिला, वनस्पति-विशेष (दस ५, २, २१)।  
 वेलुरिअ } देखो वेरुलिअ (प्राप्र: पि २४१,  
 वेलुलिअ } दे ७, ७७)।  
 वेलूणा स्त्री [दे] लज्जा, लाज (दे ७, ६५)।  
 वेल्ह अक [वेल्] १ कांपना। २ लेटना।  
 ३ सक. कंपाना। ४ प्रेरना। वेल्हइ (पि  
 १०७)। वेल्हंति (गउड)। वक. वेल्हंत,  
 वेल्हमाण (गउड; हे १, ६६; पि १०७)।  
 वेल्ह अक [रम्] झीड़ा करना। वेल्हइ (हे  
 ४, १६८)। क. वेल्हणिज्ज (कुमा ७, १४)।  
 वेल्ह पुं [दे] १ केश, बाल। २ पल्लव। ३  
 विलास (दे ७, ६४)। ४ मदन-वेदना, काम-  
 पीड़ा। ५ वि. अविदग्ध, मूलें (संलि ४७)।  
 ६ न. देखो वेल्हग (सुपा २७६)।  
 वेल्हइअ देखो वेल्हइअ (पड)।  
 वेल्हग न [दे] १ एक तरह की गाड़ी, जो  
 ऊपर से ढकी हुई होती है, गुजराती में  
 'वेल'। २ गाड़ी के ऊपर का तला (था  
 १२)।  
 वेल्हण न [वेल्हन] प्रेरणा (गउड)।  
 वेल्हय देखो वेल्हग (सुपा २८१; २८२)।  
 वेल्हरिअ पुं [दे] केश, बाल (पड)।  
 वेल्हरिआ स्त्री [दे] बल्ली, लता (पड)।  
 वेल्हरी स्त्री [दे] वेश्या, वारांगना (दे ७,  
 ७६; पड)।  
 वेल्हविअ देखो वेल्हिअ (से १, २६)।  
 वेल्हविअ वि [दे] विलिप्त, पोता हुआ (से  
 १, २६)।  
 वेल्हहल } वि [दे] १ कोमल, मुटु (दे ७,  
 वेल्हहल } ६६; पड; गउड; सुपा ५६२;  
 स ७०४)। २ विलासी (दे ७, ६६; पड;  
 सुपा ५२)। ३ सुन्दर (गा ५६८)।  
 वेल्हा स्त्री [दे. वल्ली] लता, बल्ली (दे ७,  
 ६४)।  
 वेल्हालअ वि [दे] संकुचित, संकुचा हुआ (दे  
 ७, ७६)।  
 वेल्हि देखो वल्हि (उव; कुमा)।  
 वेल्हिअ वि [वेल्हित] १ कांपाया हुआ (से ७,  
 ५१)। २ प्रेरित (से ६, ६५)।

वेल्हिरि वि [वेल्हिर] कांपनेवाला (गउड)।  
 वेल्ही देखो वेल्हि (गा ८०२; गउड)।  
 वेव अक [वेप्] कापना। वेवइ (हे ४,  
 १४७; कुमा; पड)। वक. वेवंत, देवमाण  
 रंभा; कप्प; कुमा)।  
 वेवज्झ न [वेवाह] विवाह, शादी (राज)।  
 वेवण्ण न [वेवण्य] फीकापन (कुमा)।  
 वेवय पुं [वेपक] रोग-विशेष, कम्म  
 (आचा)।  
 वेवाइअ वि [दे] उल्लसित, उल्लास-प्राप्त  
 (दे ७, ७६)।  
 वेवाहिअ वि [वेवाहिक] संवन्धी, विवाह-  
 संवन्धवाला (सुपा ४६६; कुप्र १७७)।  
 वेविअ वि [वेपित] १ कम्पित (गा ३६२;  
 पाप्र)। २ पुं. एक नरक-स्थान (वेवन् २७)।  
 वेविरि वि [वेपित्] कांपनेवाला (कुमा; हे २,  
 १४५; ३, १३५)।  
 वेव्य अ [दे] आमन्त्रण-सूचक अव्यय (हे  
 २, १६४; कुमा)।  
 वेव्य अ [दे] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
 १ भय, डर। २ वारण, ल्कावट। ३ विपाद,  
 खेद। ४ आमन्त्रण (हे २, १६३; १६४;  
 कुमा)।  
 वेस पुं [वेप] शरीर पर वस्त्र आदि की सजा-  
 वट (कम्म; स्वप्न ५२; सुपा ३८६; ३८७;  
 गउड; कुमा)।  
 वेस वि [वेप्य] विशेष रूप से वांछनीय  
 (वव ३)।  
 वेस पुं [वेप] १ विरोध, वैर। २ घृणा,  
 अप्रीति (गउड; भवि)।  
 वेस वि [वेप्य] वेपोचित, वेप के योग्य  
 (भग २, ५—पत्र १३७; सुज्ज २०—  
 पत्र २६१)।  
 वेस वि [वेप्य] १ द्वेष करने योग्य, अप्री-  
 तिकर (पउम ८८, १६; गा १२६; सुर २,  
 २०८; दे १, ४१)। २ विरोधी, शत्रु, दुश्मन  
 (सुपा १५२; उव ७६८ टी)।  
 वेस देखो वइस्स = वैश्य (भवि)।  
 वेसइअ वि [वेपयिक] विषय से संवन्ध  
 रखनेवाला (पि ६१)।

वेसंपायण देखो वइसंपायण (हे १, १५२;  
 पड)।  
 वेसंभ पुं [विश्रम्भ] विख्यात (पउम २८,  
 ५४)।  
 वेसंभरा स्त्री [दे] गृहगोषा, द्विपकली (दे  
 ७, ७७)।  
 वेसक्खिज्ज न [दे] द्वेष्यदक, विरोध,  
 दुश्मनाई (दे ७, ७६)।  
 वेसण न [दे] घननीय, लोकापवाद (दे  
 ७, ७५)।  
 वेसण न [वेपण] जीरा आदि मसाला  
 (पिड ५४)।  
 वेसण न [वेसण] चना आदि द्विदल—दाल  
 का आटा, वेसन (पिड २५६)।  
 वेसमग पुं [वेसमण] १ यक्षराज, कुवेर  
 (पाप्र; याया १, १—पत्र ३६; सुपा  
 १२८)। २ इन्द्र का उत्तर दिशा का लोकपाल  
 (सम ८६; भग ३, ७—पत्र १६६)। ३  
 एक विद्याधर-नरेश (पउम ७, ६६)। ४  
 एक राजकुमार (विपा २, ६)। ५ एक  
 श्रेष्ठ का नाम (सुपा १२८; ६२७)। ६  
 अहोरात्र का चौदहवां प्रहृत (सुज १०, १३;  
 सम ५१)। ७ एक देव-विमान (वेवन् १४४)।  
 ८ ध्रुव हिमवान् आदि पर्वतों के  
 शिखरों का नाम (ठा २, ३—पत्र ७०;  
 ८०; ८—पत्र ४३६; ९—पत्र ४५४)।  
 °काइय पुं [कायिक] वैश्रमण की आज्ञा  
 में रहनेवाली एक देव-जाति (भग ३, ७—  
 पत्र १६६)। °दत्त पुं [°दत्त] एक राजा  
 का नाम (विपा १, ६—पत्र ८८)।  
 °देवकाइय पुं [°देवकायिक] वैश्रमण के  
 अधीनस्थ एक देव-जाति (भग ३, ७—पत्र  
 १६६)। °पम पुं [°प्रम] वैश्रमण के  
 उत्पात-पर्वत का नाम (ठा १०—पत्र ४८२)।  
 °भइ पुं [°भइ] एक जैन मुनि (विपा  
 २, ३)।  
 वेसम्म न [वेपम्य] विषमता, असमानता  
 (अज्झ ५; पव २१६ टी)।  
 वेसर पुं [वेसर] १ पक्षि-विशेष (परह  
 १, १—पत्र ८)। २ अश्वतर, खच्चर।  
 स्त्री °री (सुर ८, १६)।

वेसलगा पुं [वृषल] शूद्र, अथम-जातीय मनुष्य (सूत्र २, २, ५४)।

वेसवण पुं [वैश्रवण] देखो वेसमण (हे १, १५२; चंड; देवेन्द्र २७०)।

वेसवाडिय पुं [वेशवाटिक] एक जैन मुनि-गण (कण्व)।

वेसवार पुं [वेसवार] धनिया आदि मसाला (कुप्र ६८)।

वेसा देखो वेस्सा (कुमा; सुर ३; ११६, सुपा २३५)।

वेसाणिय पुं [वैषाणिक] १ एक अन्तर्द्वीप। २ अन्तर्द्वीप विशेष में रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४, २—पत्र २२५)।

वेसानर देखो वइसानर (सट्टि ६ टी)।

वेसायण देखो वेसियायण (राज)।

वेसालिअ वि [वैशालिक] १ समुद्र में उत्पन्न। २ विशालाह्य जाति में उत्पन्न। ३ विशाल, बड़ा, विस्तारित; 'मच्छा वेसालिया चैव' (सूत्र १, १, ३, २)। ४ पुं. भगवान् ऋषभदेव (सूत्र १, २, ३, २२)। ५ भगवान् महावीर (सूत्र १, २, ३, २२; भग)।

वेसाली स्त्री [वैशाली] एक नगरी का नाम (कण्व; ३३०)।

वेसास देखो वीसास; 'को किर वेसासु वेसासो' (धर्मवि ६५)।

वेसासिअ वि [वैसासिक, विश्वास्य] विश्वास-योग्य, विश्वसनीय, विश्वास-प्राप्त (ठा ५, ३—पत्र ३४२; विपा १, १—पत्र १५; कण्व; श्रौप; तंदु ३५)।

वेसाह देखो वइसाह (पात्र; पव १)।

वेसाही स्त्री [वैशाखी] १ वैशाख मास की पूर्णिमा। २ वैशाख मास की अमावस (इक)।

वेसि वि [द्वेषिन्] द्वेष करनेवाला (पउम ८, १८७; सुर ६, ११५)।

वेसिअ देखो वइसिअ (दे १, १५२)।

वेसिअ पुं स्त्री [वैशिक] १ वैश्य, वणिक (सूत्र १, ६, २)। २ न. जैनतर शास्त्र-विशेष, काम-शास्त्र (अणु ३६; राज)।

वेसिअ वि [वैषिक] वेप-प्राप्त, वेप-संबन्धी (सूत्र २, १, ५६; आचा २, १, ४, ३)।

वेसिअ वि [व्येपित] १ विशेष रूप से अभिलपित। २ विविध प्रकार से अभिलपित (भग ७, १—पत्र २६३)।

वेसिट्टु देखो वइसिट्टु (धर्मसं २७१)।

वेसिणी स्त्री [दे] वैश्या, गणिका (गा ४७४)।

वेसिया देखो वेस्सा; 'कामासत्तो न मुणइ गम्मागम्मपि वेसियाणुव्व' (भत्त ११३; ठा ४, ४—पत्र २७१)।

वेसियायण पुं [वैश्यायण] एक बाल तापस (भग १५—पत्र ६६५; ६६६)।

वेसी स्त्री [वैश्या] वैश्य जाति की स्त्री (सुख ३, ४)।

वेसुम पुं [वेश्मन्] गृह, घर (प्राक् २८)।

वेस्स देखो वइस्स = वैश्य (सूत्र १, ६, २)।

वेस्स देखो वेस = द्वेष्य (उत्त १३, १८)।

वेस्स देखो वेस = वेप्य (राज)।

वेस्सा स्त्री [वैश्या] १ पय्यांगना, गणिका (विसे १०३०; गा १५६; ८६०)। २ श्रौप-विशेष; पाड़ का गाछ (प्राक् २६)।

वेस्सासिअ देखो वेसासिअ (भग)।

वेह सक [प्र + ईक्ष्] देखना, अवलोकन करना; 'जहा संगामकालसि पिट्ठतो भीरु वेहइ' (सूत्र १, ३, ३, १)।

वेह सक [व्यध्] बंधना, छेदना। वेहइ (पि ४८६)।

वेह पुं [वेध] १ वेधन, छेद (सम १२५; वज्जा १४२)। २ अनुबोध, अनुगम, मिश्रण। ३ द्यूत-विशेष, एक तरह का जुआ (सूत्र १, ६, १७)। ४ अनुशय, अत्यन्त द्वेष (पह १, ३—पत्र ४२)।

वेह पुं [वेधस्] विधि, विधाता (सुर ११, ५)।

वेहण न [वेधन] वेधन, छेद करना (राय १४६; धर्मवि ७१)।

वेहम्म देखो वइधम्म (उप १०३१ टी; धर्मसं १८५ टी)।

वेहल्ल पुं [विहल्ल] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (अनु १, २; निर १, १)।

वेहव सक [वञ्च्] ठगना। वेहवइ (हे ४, ६३; पइ)।

वेहव न [वैभव] विभूति, ऐश्वर्य (भवि)।

वेहविअ पुं [दे] १ अनादर, तिरस्कार। २ वि. क्रीडा (दे ७, ६६)।

वेहविअ वि [वञ्चत] प्रतारित (दे ७, ६६ टी)।

वेहव न [वैधव्य] १ विधवापन, रंडापा, रंडापन (गा ६३०; हे १, १४८; गउड; सुपा १३६)।

वेहाणस देखो वेहायस (आचा २, १०, २; ठा २, ४—पत्र ६३; सम ३३; णाया १, १६—पत्र २०२; भग)।

वेहाणसिय वि [वैहायसिक] फांसी आदि से लटक कर मरनेवाला (श्रौप)।

वेहायस वि [वैहायस] १ आकाश-सम्बन्धी, आकाश में होनेवाला। २ न. मरण-विशेष, फांसी लगा कर मरना (पव १५७)। ३ पुं. राजा श्रेणिक का एक पुत्र (अनु)।

वेहारिय वि [वैहारिक] विहार-सम्बन्धी, विहार-प्रवण (सुख २, ४५)।

वेहास न [विहायस्] १ आकाश, गगन (णाया १, ८—पत्र १३४)। अन्तराल, बीच भाग (सूत्र १, २, १, ८)।

वेहास देखो वेहायस (पव १५७; अनु १)।

वेहिम वि [वैधिक, वेध्य] तोड़ने योग्य, दो टुकड़े करने योग्य (दस ७, ३२)।

वैउंठ देखो वेकुंठ (समु १५०)।

वैभव देखो वेहव (त्रि १०३)।

वोअस देखो वोक्कस। कवक. वोयसिज्जमाण (भग)।

वोइय वि [व्यपेत] वर्जित, रहित (भवि)।

वोट देखो चिट = वृत्त (हे १, १३६)।

वोकिह वि [दे] गृह-शूर, घर में वीर बनने-वाला, झूठ शूर (दे ७, ८०)।

वोकिहल्लिअ न [दे] रोमन्य, चवी हुई चीज को पुनः चवाना (दे ७, ८२)।

वोक्क सक [त्रि + झपय] विज्ञप्ति करना। वोक्कइ (हे ४, ३८)। वक्क. वोक्कंत (कुमा)।

वोक्क सक [व्या + ह, उद् + नद्] पुकारना, आह्वान करना। वोक्कइ (पङ्; प्राक् ७४)।

वोक्क सक [उद् + नद्] अभिनय करना। वोक्कइ (प्राक् ७४)।

वोक्कंत वि [व्युत्क्रान्त] १ विपरीत क्रम से स्थित (हे १, ११६)। २ अतिक्रान्त; 'पञ्चवनयवोक्कंतं तं वत्थुं दव्वद्वियस्स वयण्णज्जं' (सम्म ८)। देखो वुक्कंत।

वोक्कस सक [व्यप + कृप्] ह्रास प्राप्त करना, कमी करना। कवक्क. वोक्कसिज्जमाण (भग ५, ६—पत्र २२८)।

वोक्कस देखो वोक्कस (सूत्र १, ६, २)।

वोक्कस देखो वुक्कस = व्युत् + कृप्। वोक्कसाहि (आवा २, ३, १, १४)।

वोक्का स्त्री [दे] वाद्य-विशेष; 'उक्कावोक्काण रवो विधंभिमो रायपंगणए' (सुपा २४२)। देखो वुक्का।

वोक्का स्त्री [व्याहृति] पुकार (उप ७६८ टी)।

वोक्कार देखो वोक्कार (सुर १, २४६)।

वोक्कय देखो वोक्क = उद् + नद्। वोक्कइ (धात्वा १५४)।

वोक्कखंदय पुं [अवस्कन्द] आक्रमण (महा)।

वोक्कखारिय वि [दे] विभूषित; 'पवरदेवंगवत्थवोक्काखारियकरणयत्तं' (स २३६)।

वोगइ वि [व्याहृत] १ कहा हुआ; प्रतिपादित (सूत्र २, ७, ३८; भग; कस)। २ परिस्फुट (आचानि २६२)।

वोगडा स्त्री [व्याहृता] प्रकट अर्थ वाली भाषा (परण ११—पत्र ३७४)।

वोगसिअ वि [व्युत्क्रांपित] निष्कासित, बाहर निकाला हुआ (तंडु २)।

वोच } सक [वद्] बोलना, कहना। वोचइ, वोच } वोच्चइ (धात्वा १५४)।

वोच्चथ वि [व्यत्यस्त] विपरीत, उल्टा; 'हियनिस्सेस (यस)वुद्धिवोच्चथे' (उत्त ८, ५; सुत्त ८, ५; वित्ते ८५३)।

वोच्चथ न [दे] विपरीत रत (दे ७, ५८)। वोच्च } देखो वय = वच्।

वोच्चिइ सक [व्युत्, व्यय + छिइ] १ भांगना, तोड़ना, खरिइत करना। २ विनाश करना। ३ परित्याग करना। वोच्चिइइ (उत्त २६, २)। भवि. वोच्चिइइहिंति (पि ५३२)। कर्म. वुच्चिज्जं, वोच्चिज्जइ, वोच्चिज्जए (कम्म २, ७; पि ५४६; काल)। भवि. वोच्चिज्जहिंति (पि ५४६)। वक्क. वोच्चिइइत, वोच्चिइइमाण (से १५, ६२; ठा ६—पत्र ३५६)। कवक्क. वोच्चिज्जंत, वोच्चिज्जमाण (से ८, ५; ठा ३, १—पत्र ११६)।

वोच्चिण्ण देखो वोच्चिण्ण (विपा १, २—पत्र २८)।

वोच्चित्ति स्त्री [व्यवच्छित्ति] विनाश; 'संसारवोच्चित्ति' (वित्ते १६३३)। °णय पुं [°नय] पर्याय-नय (एदि)।

वोच्चिन्न देखो वुच्चिन्न (भग; कप्प; सुर ४, ६६)।

वोच्छेअ } पुं [व्युच्छेद, व्यवच्छेद]  
वोच्छेद } १ उच्छेद, विनाश; 'संसारवोच्छेयकरे' (साया १, १—पत्र ६०; धम्मसं २२८)। २ अभाव, व्यावृत्ति (कम्म ६, २३)। ३ प्रतिवन्ध, रूकावट, निरोध (उवा; पंचा १, १०)। ४ विभाग (गउड ७४०)।

वोच्छेयण न [व्युच्छेदन] १ विनाश (विइय ५२४; पिड ६६६)। २ परित्याग (ठा ६ टी—पत्र ३६०)।

वोच्च देखो वुच्च। वोच्चइ (हे ४, १६८ टी)।

वोच्च सक [वीजय] हवा करना। वोच्चइ (हे ४, ५; पङ्)। वक्क. वोच्चंत (कुमा)।

वोच्चिर वि [त्रसिन्] डरनेवाला (कुमा)।

वोच्चइ देखो वच् = वच्। भवि. 'तेणं कालेणं तेणं समएणं गंगासिधुओ महानवीओ रहपहवित्तराओ अक्कसोयप्पमाणमत्तं जणं वोच्चिहिंति' (भग ७, ६—पत्र ३०७)। क्व. 'नासानोसासवायवोच्चं...अमुयं' (साया १, १, १—पत्र २५; राय १०२; प्राप)।

वोच्चइ } पुं [दे] वोक्क, भार; 'असि-  
वोच्चमइ } वोच्चं-फलवोच्चमल्लं च' (दे ७, ८०)।

वोच्चर वि [दे] १ अतीव। २ भीत, त्रस्त (दे ७, ६६)।

वोच्चि वि [दे] सक्त, लीन (पङ्)।

वोच्च वि [दे] १ दुष्ट। छिन्न-कर्ण, जिसका कान कट गया हो वह (गा ५४६)। देखो वोच्च।

वोच्चही स्त्री [दे] १ तच्छी, युवति। २ कुमारी; 'सिक्खंतु वोच्चहीओ' (गा ३६२)। देखो वोच्चर।

वोच्चु वि [दे] मूर्ख; वेवक्कफ (उव)।

वोच्च वि [उच्च] वहन किया हुआ (धात्वा १५४)।

वोच्च वि [दे] देखो वोच्च (गा ५५० अ)।

वोच्चव्य देखो वह = वच्।

वोच्चु वि [वोच्च] वहन-कर्ता (महा)।

वोच्चुं देखो वह = वच्।

वोच्चूण अ [उच्चूणा] वहन कर (पि ५८६)।

वोच्चव्य देखो वय = वच्।

वोच्चुआण अ [उक्त्वा] कह कर (पङ्—पृ १५३)।

वोच्चुं } देखो वय = वच्।  
वोच्चूण }

वोच्चण न [व्यवदान] १ कर्म-निर्जरा; कर्मों का विनाश (ठा ३, ३—पत्र १५६; उत्त २६, १)। २ शुद्धि, विशेष रूप से कर्म-विशोधन (पंचा १५, ४; उत्त २६, १; भग)। ३ तप, तपश्चर्या (सूत्र १, १४; १७)। ४ वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३४)।

वोच्चर वि [दे] तच्छण, युवा (दे ७, ८०); 'वोच्चरहम्मि पडिआ' (हे २, ८०)। स्त्री. 'ही; 'सिक्खंतुवोच्चहीओ' (हे २, ८०)।

वोच्चिसण वि [दे] बराक, दीन, गरीब (दे ७, ८२)।

वोच्च न [व्योच्चन] आकाश, गगन (पाअ; वित्ते ६५६)। 'विन्दु पुं [°विन्दु] एक राजा का नाम (पउम ७, ५३)।

वोच्चइ पुं [दे] अनुचित वेप (दे ७, ८०)।

वोच्चइअ न [दे] अनुचित वेप का ग्रहण (दे ७, ८० टी)।

वोच्चि पुं [व्योच्चि] एक जैन मुनि (कप्प)।

वोच्चि स्त्री [व्योच्चि] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प)।

वोय पुं [वोक] एक देश का नाम (पउम ६८, ६४) ।

वोरच्छ वि [दे] तरण, युवा (दे ७, ८०) ।

वोरमण न [व्युपरमण] हिता, प्राणि-वध (परह १, १—पत्र ५) ।

वोरही वी [दे] १ श्रावण मास की शुक्ल चतुर्दशी तिथि में होनेवाला एक उत्सव । २ श्रावण मास की शुक्ल चतुर्दशी (दे ७, ८१) ।

वोरविअ वि [व्यपरोपित] जो मार डाला गया हो वह; 'सकारित्ता जुयलं दिन्नं विइएण वोरविओ' (वव १) ।

वोरुट्टी वी [दे] रुई से भरा हुआ बर (पव ८४) ।

वोल सक [गम्] १ गति करना, चलना । २ गुजारना, पसार करना । ३ अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना । ४ अक. गुजरना, पसार होना । वोलइ (प्राक् ७३; हे ४, १६२; महा; धर्मसं ७५४); 'कालं वोलैइ' (कुप्र २२४), वोलंति (वजा १४८; धर्मवि ५३) । वक्. वोलंत, वोलैत (कुमा; गा २१०; २२०; पउम ६, ५४; से १४, ७५; सुपा २२४; से ६, ६६) । संक. वोलिऊण, वोलैत्ता (महा; आव) । क. वोलैअव्य (से २, १; स ३६३) । प्रयो., संक. वोल्लाविउं, वोल्लावेउं (सुपा १४०; गा ३४६ अ ?) । देखो वोल = व्यति + क्रम् ।

वोल देखो वोल = दे (दे ६, ६०) ।

वोलट्ट अक [व्युप + लुट्] छलकना । वक्. वोलट्टमाण (भग) ।

वोलाविअ वि [गमित्त] अतिक्रामित (वजा १४, सुपा ३३४; गा २१) ।

वोलिअ } वि [गत] १ गया हुआ (प्राक् वोलिण } ७७) । २ गुजरा हुआ, जो पसार हुआ हो वह; व्यतीत (सुर ६, १६; महा; पव ३५; सुर ३, २५) । ३ अतिक्रान्त,

उल्लंघित (पात्र; सुर २, १; कुप्र ४५; से १, ३; ४, ४८; गा ५७; २५२; ३४०; हे ४, २५८; कुमा; महा) ।

वोल सक [आ + क्रम्] आक्रमण करना । वोलइ (वात्वा १५४) ।

वोलाह पुं [वोलाह] देश-विशेष (स ८१) ।

वोलाह वि [वोलाह] देश-विशेष में उत्पन्न (स ८१) ।

वोवाल पुं [दे] वृषभ, बैल (दे ७, ७६) ।

वोसग्ग पुं [व्युत्सर्ग] परित्याग (विसे २६०५) ।

वोसग्ग } अक [वि + कस्] १ विकसना, वोसट्ट } खिलना । २ बढ़ना । वोसग्गइ, वोसट्टइ (पड्; हे ४, १६५; प्राक् ७६) । वक्. वोसट्टमाण (भग; गा ८२८) ।

वोसट्ट सक [वि + कासय्] १ विकास करना । २ बढ़ाना । वोसट्टइ (वात्वा १५४) ।

वोसट्ट वि [विकसित] विकास-प्राप्त (हे ४, २५८; प्राक् ७७) ।

वोसट्ट वि [दे] भर कर खाली किया हुआ (दे ७, ८१) ।

वोसट्टिअ वि [विकसित] विकास-प्राप्त (कुमा) ।

वोसट्ट वि [व्युत्सट्ट] १ परित्यक्त, छोड़ा हुआ (कप्प; कस्; ओव ६०५; उत्त ३५, १६; आवा २, ८, १; पंचा १८, ६) । २ परिष्कार-रहित, साफसूफ-वर्जित (सूअ १, १६, १) । ३ कायोत्सर्ग में स्थित (दस ५, १, ६१) ।

वोसमिय वि [व्यवशमित] उपशमित, शान्त किया हुआ; 'खामिय वोसमियाइं अहिगरणाइं तु जे उदीरेंति । ते पावा नायव्वा' (ठा ६ टी—पत्र ३७१) ।

वोसर } सक [व्युत् + सृज्] परित्याग वोसिर } करना, छोड़ना । वोसरिओ, वोसिरइ, वोसिरामि (पव २३७; महा; भग;

ओप), वोसिरेजा, वोसिरे (पि २३५) । वक्. वोसिरंत (कुप्र ८१) । संक. वोसिज्ज, वोसिरित्ता (सूअ १, ३, ३, ७; पि २३५) । क. वोसिरियव्व (पत्र ४६) ।

वोसिर वि [व्युत्सर्जन] छोड़नेवाला (उप पृ २६८) ।

वोसिरण न [व्युत्सर्जन] परित्याग (हे २, १७४; आ १२; श्रावक ३७६; ओव ८५) ।

वोसिरिअ देखो वोसट्ट (पउम ४, ५२; धर्मसं १०५१; महा) ।

वोसेअ वि [दे] उन्मुख-गत (दे ७, ८१) ।

वोहित्त न [वहित्त] प्रवहण, जहाज, नौका (गा ७४६) । देखो वोहित्थ ।

वोहार न [दे] जल-चहन (दे ७, ८१) ।

व्युड पुं [दे] विट, भड्डा (पड्) ।

व्रंद देखो वंद = वृन्द (प्राप्र) ।

व्रत्त (अप) देखो वय = व्रत (हे ४, ३६४) ।

व्राक्रोस (अप) पुं [व्याक्रोश] १ शाप । २ निन्दा । ३ विरुद्ध चिन्तन (प्राक् ११२) ।

व्रागरण (अप) देखो वागरण (प्राक् ११२) ।

व्राडि (अप) पुं [व्याडि] संस्कृत व्याकरण और कोप का कर्ता एक मुनि (प्राक् ११२) ।

व्रास देखो वास = व्यास (हे ४, ३६६; प्राक् ११२; पड्; कुमा) ।

व्य देखो इय (हे २, १८२; कप्प; रंभा) ।

व्य देखो वा = अ (प्राक् २६) ।

व्यअ देखो वय = व्रत (कुमा) ।

व्यवसिअ देखो ववसिय = व्यवसित (अभि १२४) ।

व्याज देखो वाय = व्याज (मा २०) ।

व्यावार देखो वावार = व्यापार (मा ३६) ।

व्यावुड देखो वावुड (अभि २४६) ।

व्याहि देखो वाहि (मा ४४) ।

व्विय देखो इय (प्राक् २६) ।

व्वे अ [दे] संबोधन-सूचक अव्यय (प्राक् ८०) ।

॥ इअ सिरिपाइअसइमहण्णवम्मि वअराइसइसकलणो पंचतीसइओ तरंगो समत्तो ॥

## श

शिआल (मा) पुं [श्याल] बहू का भाई, | श्रिट ( मा ) देखो चिट्टु = स्या । श्रिट्टि  
साला (प्राङ् १०२; मुच्च २०४) । | (वात्वा १५४; प्राङ् १०३) ।

॥ इय सिरिपाइअसइमहणवन्मि शयाराइसइसंकलणो  
द्वत्तीसइमो तरंगो समत्तो ॥

## स

स पुं [स] व्यञ्जन वर्य-विशेष, इसका उच्चारण-स्थान दाँत होने से यह दन्त्य कहा जाता है (प्राप्र) । अण, गण पुं [गण] पिंगल-प्रसिद्ध एक गण, जिसमें प्रथम के दो ह्रस्व और तीसरा गुरु अक्षर होता है (पिंग) । गारं पुं [कार] 'स' अक्षर (वर्तान १०, २) ।

स देखो सं = सम् (पङ्; पिंग) ।

स पुं [धन] धान, कुत्ता (हे १, ५२; ३, ५६; पङ्) । पाग पुं [पाक] चण्डाल (उव) । मुहि पुं [मुखि] कुत्ते की तरह आचरण, कुत्ते की तरह नयण—नू कना (खाया १, ६—पत्र १६०) । वच पुं [पच] चाण्डाल (दे १, ६४) । वाग, वाय देखो पाग (वे ५६; पाप्र) ।

स अ [स्वर] मुरानय, स्वर्ग (विते १=८२) ।

स वि [सन्] १ श्रेष्ठ, उत्तम (उवा; कुमा; कुप्र १४१) । २ विद्यमान; नो य उप्पज्जए अ-सं (सूत्र १, १, १, १६) । उरिस पुं [पुरि] श्रेष्ठ पुरुष, सज्जत (गउड) । कय वि [कृत] संमानित (परह १, ४—पत्र ६८); देखा किअ । कह वि [कथ] सत्य वक्ता (सं ३२) । किअ न [कृत] सत्कार, संमान (उत्त १५, ५); देखो कय । गइ वी [गति] उत्तम गति—१ स्वर्ग ।

२ मुक्ति, मोक्ष (भवि; राज) । जण पुं [जन] भला आदमी; सत्पुरुष (उव; हे १, ११; प्रासू ७) । त्तम वि [त्तम] अतिशय साधु, सज्जनों में अतिश्रेष्ठ (सुपा ६५५; था १४; सार्व ३) । थाम न [थामन्] प्रशस्त बल (गउड) । धम्मिअ वि [धार्मिक] श्रेष्ठ धार्मिक (था १२) । ज्ञाण न [ज्ञान] उत्तम ज्ञान (था २७) । प्पभ वि [प्रभ] सुन्दर प्रभा वाला (साय) । पुरिस पुं [पुरुष] १ सज्जन, भला आदमी (अनि २०१; प्रासू १२) । २ किपुरुष-निकाय के दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ३ श्रेष्ठ (कुप्र ४८) । फल वि [फल] श्रेष्ठ फलवाला (अचु ३१) । भाव पुं [भाव] १ सम्भव, उत्पत्ति (उप ७२६) । २ सत्त्व, श्रुतित्व (सम्म ३७; ३८; ३९) । ३ सुन्दर भाव, चित्त का अच्छा अभिप्राय; 'सव्भावो पुण उज्जुजणस्स कोडि विससेइ' (प्रासू ६; १७२; उव; हे २, १६७) । ४ भावाय, तात्पर्य (सुर ३, १०१) । ५ विद्यमान पदार्थ (अणु) । भावदायणा वी [भावदर्शन] आलोचना, प्रायश्चित्त के लिए निज दोष का गुवादि के समान प्रकटीकरण (शोच ७६१) । भाविअ वि [भावित] सद्भाव-युक्त (सं २०१; ६६८) । भूअ वि

[भूत] १ सत्य, वास्तविक, सच्चा; 'सव्भू-एहि भावेहि' (उवा) । २ विद्यमान (पंचा ४, २४) । याचार पुं [आचार] प्रशस्त आचरण (स्यण १५) । ह्व वि [ह्व] प्रशस्त ह्ववाला (पउम ८, ६) । हग पुं [लग] प्रशस्त संवरण, इन्द्रिय-संयम (सूत्र २, २, ५७) । वाय पुं [वाद] प्रशस्त वाद (सूत्र २, ७, ५) । वाया वी [वाच्] प्रशस्त वाणी (सूत्र २, ७, ५) ।

स पुं [स्व] १ आत्मा, खुद (उवा; कुमा; सुर २, २०६) । २ ज्ञाति, नात (हे २, ११४; पङ्) । ३ वि. आत्मीय, स्वीय, निजी (उवा; श्रोषमा ६; कुमा; सुर ४, ६०) । ४ न. वन, द्रव्य (पंचा ८, ६; आचा २, १, १, ११) । ५ कर्म (आचा २, १६, ६) । कडिभ, गडिभ वि [कृतभिद्] निज के किए हुए कर्मों का विनाशक (पिं १६६; आचा १, ३, ४, १; ४) । जण पुं [जन] १ ज्ञाति, सगा । २ आत्मीय लोग (स्वप्न ६७; पङ्) । तंत वि [तन्त्र] १ स्वाधीन, स्व-वश (विते २११२; दे ३, ४३; अचु १) । २ न. स्वकीय सिद्धान्त (निहू ११) । थ्य वि [स्थ] १ तंदुहस्त, स्वभाव-स्थित । २ सुख से अवस्थित (पाप्र; पउम २६, ३१; स्वप्न १०६; सुर १०, १०४; सुपा २७६; महा; सण) । पक्ख पुं [पक्ष] १ सार्धमिक,

समान धर्मवाला (द्र १७) । २ तरफदार (कुप्र ११६) । ३ अपना पक्ष (सम्म २१) । पाय न [पात्र] निज का नाम, बुद्ध की संज्ञा (राज) । प्पभ वि [प्रभ] निज से ही शोभनेवाला (सम १३७) । उभाव, भाव पुं [भाव] प्रकृति, निसर्गः 'कणियारतह नवकणिएणभारसुदेरदरिअसवभाओ' (कुमा ३, ४४; सम्म २१; सुर १, २७; ४, १२५);

‘कुवियत्स आउरत्स य

वसणासत्तस्स आयरत्तस्स ।

मत्तस्स मरत्तस्स य

सवभावा पायडा हुंति”

(प्रासू ६४) ।

भावन्तु वि [भावज्ञ] स्वभाव का जानकार (पउम ८६, ४१) । यण देखो जण (उवा; हे २, ११४; सुर ४, ७६; प्रासू ७६; ६५) । रूय, रूव न [रूप] स्वभाव (गडड; धर्मसं ६१३; कुमा; भवि; सुर २, १४२) । संवेयण न [संवेदन] स्वप्रत्यक्षज्ञान (धर्मसं ४४) । हाअ, हाव देखो भाव (से ३, १५; ७, १७; गडड; सुर ३, २२; प्रासू २; १०३) । हाववाद पुं [भाववाद] स्वभाव से ही सब कुछ होता है ऐसा माननेवाला मत (उप १००३) । हिअ न [हित] १ निज का भला, स्वीय—अपनी भलाई । २ वि. निज का भला करनेवाला, स्वहितकर (सुपा ४१०) ।

सं वि [सं] १ सहित, युक्त (सम १३७; भग; उवा; सुपा १६२; सण) । २ समान, तुल्य; 'सयुते', 'सपक्खे' (कप्प; निर १, १) । अण्ह वि [तृष्ण] उत्कण्ठित, उत्सुक (से १२, ६८; गा ३४८; गडड; सुपा ३८४) । अर वि [कर] कर-सहित (से २, २६) । अर वि [गर] विप-युक्त, जहरोला (से २, २६) । इण्ह देखो अण्ह (सुपा ४१२) । उण वि [गुण] गुण-युक्त (सुपा १८५) । उण्ण, उन्न वि [पुण्य] पुण्य-युक्त, पुण्य-शाली (महा; सुर २, ६८; सुपा ६३५) । ओस वि [तोष] सन्तुष्ट (उप ७२८ टी) । ओस वि [दोष] दोष-युक्त (उप ६२८ टी) । काम वि [काम] १ समृद्ध मनोरथवाला (स्वप्न ३०) । २ मनोरथ-युक्त,

इच्छावाला (राज) । कामणिज्जरा ली [कामनिज्जरा] कर्म-निजरा का एक भेद (राज) । काममरण न [काममरण] मरण-विशेष, परिणत-मरण (उत्त ५, २) । केय वि [केत] १ गृहस्व । २ प्रत्याख्यान-विशेष (पव ४) । क्खर वि [क्षर] विद्वान्, जानकार (वज्जा १५८; सम्मत्त १४३) । गार वि [गार] गृहस्व (ओषभा २०) । गार वि [गार] आकार-युक्त (धर्मवि ७२) । गुण वि [गुण] गुणवान्, गुणी (उव; सुपा ३४५; सुर ४, १६६) । ग्ग वि [ग्र] श्रेष्ठ, उत्तम (से ६, ४७) । ग्गह वि [ग्रह] उपरक्त, ग्रहण-युक्त, दुष्ट ग्रह से आक्रान्त (पात्र; वव १) । धिण वि [धृण] दयालु (अच्छु ५०) । चक्खु, चक्खुअ वि [चक्षुष, चक्षुष्क] नेत्र-वाला, देखता (पउम ६७, २३; वसु; सं ७८; विपा १, १—पत्र ५) । चित्त वि [चित्त] चेतनावाला, सजीव (उवा; पडि) । चैयण वि [चेतन] वही अर्थ (वित्ते १७५३) । चित्त देखो चित्त (ओष २२; सुपा ६२५; ६२६; पि १६६; ३५०) । जिय देखो ज्जीअ (सुर १२, २१०) । जोइ वि [ज्योतिष्] प्रकाश-युक्त (पि ४११; सूत्र १, ५, १, ७) । जोणिय वि [योनिक] उत्पत्ति-स्थानवाला, संसारी (ठा २, १—पत्र ३८) । ज्जीअ, ज्जीव वि [जीव] १ ज्या-युक्त, धनुष की डोरी-वाला । २ सचेतन, जीववाला (पि १६६; से १, ४५) । ३ न. कला-विशेष, मृत धातु वगैरह को सजीवन करने का ज्ञान (ओप; राय; जं २ टी—पत्र १३७) । इड्ड वि [र्ध] डेढ़ । इड्डकाल पुं [र्धकाल] तप-विशेष, पुरिमङ्ग तप (संबोध ५८) । णप्पय, णप्फद, णप्फय वि [नखपद] नख-युक्त पैरवाला, सिंह आदि श्वापद जंतु (सूत्र २, ३, २३; ठा ४, ४—पत्र २७१; सूत्र १, ५, २, ७; पण १—पत्र ४६; पि १४८) । णाह वि [नाथ] स्वामी-वाला, जिसका कोई मालिक हो वह (विपा १, २—पत्र २७; रंभा; कुमा) । त्तण्ह वि [तृष्ण] तृष्णा-युक्त, उत्कण्ठित,

उत्सुक (से १, ४६) । त्तर वि [त्तर] १ त्वरा-युक्त, वेगवाला । २ न. शीघ्र, जल्दी (सुपा १५६) । ध्व वि [ध्व] अर्थ-सहित, डेढ़ (पउम ६८, ५४) । धवा ली [धवा] सौभाग्यवती ली, जिसका पति जीवित हो वह ली (सुपा ३६५) । नय वि [नय] न्याय-युक्त, व्याजवी (सुपा ५०४) । पक्ख वि [पक्ष] १ पाँखवाला, पाँखों से युक्त (से २, १४) । २ सहायता करनेवाला, सहायक, मित्र (पव २३६; स ३६७) । ३ समान पार्श्ववाला, दक्षिण आदि तरफ से जो समान हो वह (निर १, १) । पुन्न वि [पुण्य] पुण्यशाली, पुण्यवान् (सुपा ३८४) । प्पभ वि [प्रभ] प्रभा-युक्त (सम १३७; भग) । प्परिआव, प्परिताव वि [परिताप] परिताप—संताप से युक्त (आ ३७; पड्) । प्पिस-ह्ग वि [पिशाचक] पिशाच-गृहीत, पागल (पण्ह २, ५—पत्र १५०) । प्पिवास वि [पिपास] तृषातुर, सतृष्ण (हे २, ६७) । प्पिह वि [स्पृह] स्पृहावाला (दे ७, २६) । प्पफंद वि [स्पन्द] चलायमान (दे ८, ८) । प्फल, फल वि [फल] सार्थक (से १५, १४; हे २, २०४; प्राप; उप ७२८ टी) । व्वल वि [वल] बल-वान्, बलिष्ठ (पिग) । भल देखो फल (हे १, २३६; कुमा) । मण वि [मनस्] १ मनवाला, विवेक-बुद्धिवाला (धण २२) । २ समान मनवाला, राग-द्वेष आदि से रहित, मुनि, साधु (अणु) । मणक्खवि [मनस्क] पूर्वोक्त अर्थ (सूत्र २, ४, २) । मय वि [मद] मद-युक्त (से १, १६; सुपा १८८) । महिड्डिअ वि [महर्द्धिक] महान् वैभव-वाला (प्रासू १०७) । मिरीईअ, मिरीय वि [मरीचिक] किरण-युक्त (भग; औप; ठा ४, १—पत्र ३२६) । मेर वि [मर्याद] मर्यादा-युक्त (ठा ३, २—पत्र १२६) । यण्ह वि [तृष्ण] तृष्णा-युक्त (गडड; सुपा ३८४) । याण वि [ज्ञान] सयाता, जानकार (सुपा ३८५) । योगि वि [योगिन्] १ व्यापार-युक्त, योगवाला । २ न. तेरहां गुण-स्थानक (कम्म २, ३१) ।

°रय वि [°रत] कामो (मे १, २७) ।  
 °रहस वि [°रभस] वेग-युक्त, उतावला  
 (गा ३५४; मुपा ६३२; कण्ठ) । °राग वि  
 [°राग] राग-सहित (ठा २, १—पत्र ५८) ।  
 °रागसंजत, °रागसंजय वि [°रागसंजयत]  
 वह साधु जिसका राग क्षीण न हुआ हो  
 (पण १७—पत्र ४६४; उवा) । °हय  
 वि [°रूप] समान रूपवाला (पत्र ८,  
 ६) । °लूग वि [°लवण] लावण-युक्त  
 (मुपा २६३) । °लोग वि [°लोक] समान,  
 सदृश (सद्वि २१ टी) । °लोग देखो °लूग  
 (गा ३१६; हे ४, ४४४; कुमा) । °लो  
 °लोणी (हे ४, ४२०) । °वक्त्र देखो °पक्त्र  
 (गउड; भवि) । °वण वि [°व्रण] धाववाला,  
 व्रण-युक्त (मुपा २८) । °वय वि  
 [°वयस्] समान उम्रवाला (दे ८, २२) ।  
 °वय वि [°व्रत] ब्रती (मुपा ४५१) । °वाय  
 वि [°पाद] सवा (स ४४१) । °वाय  
 वि [°वाद] वाद-सहित (नूत्र २, ७, ५) ।  
 °वास वि [°वास] समान वासवाला, एक  
 देश का रहनेवाला (प्रासू ७६) । °विज्ज वि  
 [°विद्य] विद्यावान्, विद्वान् (उप पृ २१५) ।  
 °व्यण देखो °वण (गउड; आ १२) ।  
 °व्यवेक्ख वि [°व्यपेक्ष] दूसरे की परवाह  
 रखनेवाला, सापेक्ष (धर्मसं ११६७) । °व्याप  
 वि [°व्याप] व्याप्ति-युक्त, व्यापक (भग  
 १, ६—पत्र ७७) । °विवर वि [°विवर]  
 विवरण-युक्त, सविस्तर (मुपा ३६४) ।  
 °संक्र वि [°शङ्क] शंका-युक्त (दे २, १०६;  
 मुर १६, ५५; कुम ४४५; गउड) । °संक्रिअ  
 वि [°शङ्कित] वही (मुर ८, ४०) । °सत्ता  
 वी [°सत्त्वा] सगर्भा, गर्भिणी वी (उत्त  
 २१, ३) । °सिरिय, °सिरीय वि [°श्रीक]  
 श्री-युक्त, शोभा-युक्त (पि ६८; णाया १, १;  
 राय) । °सिह वि [°सृह] स्थवावाला  
 (कुमा) । °सिह वि [°शिख] शिखा-युक्त  
 (राज) । °सुग वि [°शूक] दयालु (उज) ।  
 °सेस वि [°शेष] १ सावशेष, बाकी रहा  
 हुआ (दे ८, ५६; गउड) । २ शेषनाग-सहित  
 (गउड १५) । °सोग, सोगिह वि [°शोक]  
 दिखगौर, शोक-युक्त (पत्र ६३, ४; मुर ६,  
 १२४) । °सिसरिअ, °सिसरीअ देखो

°सिरिय (पि ६८; अग्नि १५६; भग सम  
 १३७; णाया १, ६—पत्र १५७) ।  
 सअ सक [°स्वद] १ प्रीति करना । २ चलना,  
 स्वाद लेना । तपस (प्राकृ ७५; वाक्वा  
 १५४) ।  
 सअ न [°सदस्] सभा (पड) ।  
 सअअ न [°दि] १ शिला, फरवर का तस्ता ।  
 २ वि. धूमिल (दे ८, ४६) ।  
 सअअवगत पुं [°दे] कितव, जुपारी (दे ८,  
 २१) ।  
 सअअिअ } पुं वी [°दे] प्रातिवेशिक,  
 सअअिअ } पड़ोसी (गा ३३५) । वी. °आ  
 (गा ३६; ३६ अ); 'सअअिअं संवतोए'  
 (गा ३६; पिड ३४२) । देखो सइअिअ ।  
 सअअिआ देखो सगअिआ (पि २०७) ।  
 सअअ पुं [°दे] लम्बा केश (दे ८, ११) ।  
 सअअ पुं [°शष्ट] १ दंत-विशेष (प्राप्र;  
 संक्षि ७; हे १, १६६) । २ पुंन. यान-विशेष,  
 गाड़ी (हे १, १७७; १८०) । °रि पुं  
 [°रि] नरसिंह, शोकृष्ण (कुमा) । देखो  
 सगड ।  
 सअर देखो स-अर = स-कर, स-गर ।  
 सअर देखो सगर (मे २, २६) ।  
 सअा अ [°सदा] १ हमेशा; निरन्तर (प्राप्र;  
 हे १, ७२; कुमा; प्रासू ४६) । °चार पुं  
 [°चार] निरन्तर गति (खण १५) ।  
 सअा वी [°सज्] माला (पड) ।  
 सइ देखो सअा = सदा (प्राप्र; हे १, ७२;  
 कुमा) ।  
 सइ अ [°सकत्] एक बार, एक दफा (हे  
 १, १२८; सम ३५; मुर ८, २४४) ।  
 सइ वी [°स्मृति] स्मरण, चिन्तन, याद (आ  
 १६) । °काल पुं [°काल] निज्ञा मिलने का  
 समय (दस ५, २, ६) ।  
 सइ देखो स = स्व; 'सइकारियणपडिमाए'  
 (मुपा ५१०; भवि) ।  
 सइ देखो सय = शत; 'अस्सोयवं सोचावि  
 ष्टुए जं न सइखंडं' (मुर १४, २) । °कोडि  
 वी [°कोटि] एक सौ करोड़, एक अरब—  
 अरब (पड) ।  
 सइ देखो सइ = स्वयम् (काल; हे ४, ३६५;  
 ४३०) ।

सइ° देतो सइ = सती (मुपा ३०१) ।  
 सइअ वि [°शक्ति] सी का परिमाणवाला  
 (णाया १, १—पत्र ३७) । देखो सइग ।  
 सइअ वि [°शयित] मुक्त, सोया हुआ (दे  
 ७, २८; गा २५४; पत्र १०१, ६०) ।  
 सइअइय देतो स = स्व; 'तव य पाणयो  
 परिव्यापयो जस्तदेजामो वणणए दाविद-  
 पुरिसं पेतुण' (महा) ।  
 सइ देतो सइ = सख (प्राचा) ।  
 सइ देतो सयं = स्वयम् (ठा २, ३—पत्र  
 ६३; हे ४, ३३६; ४०२; भवि) ।  
 सइग वि [°शक्ति] सी (हयवा आदि) की  
 कीमत का (दार्ति ३, १३) ।  
 सइअ } पुं वी [°दे] प्रातिवेशिक, पड़ोसी  
 सइअिअ } (दे ८, १०) । वी. °आ (मुपा  
 २७८; पिड ३४२ टी; वज्रा ६४) ।  
 सइअिअ न [°दे] प्रातिवेश, पड़ोसियन  
 (दे ८, १० टी) ।  
 सइण्य न [°सैन्य] सेना, सयकर (पड) ।  
 सइत्तए देखो सय = शी ।  
 सइदंसण वि [°दे. स्मृतिदर्शन] मनो-दृष्ट,  
 चित्त में प्रवृत्त, विचार में प्रतिभासित  
 (दे ८, १६; पाप्र) ।  
 सइदिट्ट वि [°वे. स्मृतिदृष्ट] ऊपर देखो (दे  
 ८, १६) ।  
 सइअ देखो सइण्य (हे १, १५१; कुमा) ।  
 सइम वि [°शततम] सौवां, १०० वां (णाया  
 १, १६—पत्र २१४) ।  
 सइर न [°स्वैर] १ स्वैच्छा, स्वच्छन्दता (हे  
 १, १५१; प्राप्र; णाया १, १८—पत्र  
 २३६) । २ वि. मन्द, धनस (पाप्र) । ३  
 स्वैरी, स्वच्छन्दी (पाप्र; प्राप्र) ।  
 सइरसह पुं [°दे. स्वैरवृपभ] स्वच्छन्दी  
 साह, धर्म के लिए छोड़ा जाता बँत (दे २,  
 २५; ८, २१) ।  
 सइरि वि [°स्वैरिन्] स्वच्छन्दी, स्वैच्छाचारी  
 (गच्छ १, ३८) ।  
 सइरिणी वी [°स्वैरिणी] व्यभिचारिणी वी,  
 कुलटा (पत्र ५, १०५) ।  
 सइल देखो सेल (हे ४, ३२६) ।  
 सइलंभ वि [°दे. स्मृतिलंभ] देखो सइ-  
 दंसण (दे ८, १६; पाप्र) ।

सइलासअ } पुं [दे] मयूर, मोर (दे ८, सइलासिअ } २०; पड्)।

सइव पुं [सचिच] १ प्रधान, मन्त्री, अमात्य (पात्र)। २ सहाय, मदद-कर्ता। ३ काला वतुरा (प्राक् ११)।

सइसिल्वि पुं [दे] स्कन्द, कार्तिकेय (दे ८, २०)।

सइसुह वि [दे.स्मृतिसुख] देखो सइदंसण (दे ८, १६; पात्र)।

सई व्री [शची] इन्द्राणी; शक्रन्द्र की एक पटरानी (ठा ८—पत्र ४२६; णायो २—पत्र २५३; पात्र; सुपा ६८; ६२२; कूप २३)। स पुं [श] इन्द्र (कुमा)। देखो सची।

सई व्री [सती] पतिव्रता व्री (कुप्रा २३; तिरि १४३)।

सई व्री [शती] सौ, १००; 'पंचसई' (धर्मवि १४)।

सईणा व्री [दे] अन्न-विशेष, तुवरी, रहर (ठा ५, ३—पत्र ३४३)।

सउ } (अप) देखो सह (सण; भवि)।  
सउं }

सउंत पुं [शकुन्त] १ पत्नी, पाली (पात्र)। २ पत्नि-विशेष, भास-पत्नी (स ४३६)।

सउंतला व्री [शकुन्तला] विद्यामित्र ऋषि की पुत्री और राजा दुष्यंत की गन्धर्व-विवाहिता पत्नी (हे ४, २६०)।

सउंदला (शौ) ऊपर देखो (अभि २६; ३०; पि २७५)।

सउण वि [दे] हड, प्रसिद्ध (दे ८, ३)।

सउण पुं [शकुन] १ शुभाशुभ-सूचक वाहु-स्वन्दन, काक-दर्शन आदि निमित्त, सगुन; 'सुहजोगाई सउणो कंदिअसदाई इअरो उ' (धर्म २; सुपा १८५; महा)। २ पुं. पत्नी, पाली (पात्र; गा २२०; २८५; कव ३४; सट्टि ६ टी)। ३ पत्नि-विशेष (पएह १, १—पत्र ८)। विउ वि [विट्ट] सगुन का जानकार (सुपा २६७)। रुअ न [रुत] १ पत्नी की आवाज। २ कला-विशेष, सगुन का परिज्ञान (णायो १, १—पत्र ३८; जं २ टी—पत्र १३७)।

सउण देखो स-उण = स-गुण।

सउणि पुं [शकुनि] १ पत्नी, पत्नी; पाली (श्रौप; हेका १०५; संवोव १७)। २ पत्नि-विशेष, चील पत्नी (पात्र)। ३ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर करण जो कृष्ण चतुर्दशी की रात में सदा अवस्थित रहता है (विसे ३३५०)। ४ नपुंसक-विशेष, चटक की तरह बारबार मैथुन-प्रसक्त होव (पव १०६; पुष्प १२७)। ५ दुर्योधन का मामा (णायो १, १६—पत्र २—८; सुपा २६०)।

सउणिअ देखो साउणिअ (राज)।

सउणिआ } व्री [शकुनिका, नी] १  
सउणिगा } पत्निणी, पत्नी की मादा (गा  
सउणी } ८१०; अत्र १)। २ पत्नि-विशेष  
की मादा; 'सउणी जाया तुम' (ती ८)।

सउण्ण देखो स-उण्ण = सगुण्य।

सउत्ती व्री [सपत्नी] एक पति की दूसरी व्री; समान पतिवाली व्री, सौत, सौतिन (सुपा ६८)।

सउत्त देखो स-उत्त।

सउम पुं [सदमन्] १ गृह, घर। २ जल, पानी (प्राक् २८)।

सउमार वि [सुकुमार] कोमल (से १०, ३४, पड्)।

सउर पुं [सौर] १ ग्रह-विशेष, शनैश्वर। २ यम, जमराज। ३ बुद्ध-विशेष, उदुम्बर का पेड़। ४ वि. सूर्य का उपासक। ५ सूर्य-संबन्धी (चंड; हे १, १६२)।

सउरि पुं [शौरि] विष्णु, श्रीकृष्ण (पात्र)।

सउरिस देखो स-उरिस = सत्पुरुष।

सउल पुं [शकुल] मत्स्य, मछली; 'सउला सहरा मोणा तिमी भसा अणिमिसा मच्छा' (पात्र)।

सउलिअ वि [दे] प्रेरित (दे ८, १२)।

सउलिआ } व्री [दे. शकुनिका, नी]  
सउली } १ पत्नि-विशेष की मादा, चील पत्नी की मादा (ती ८, अणु १४१; दे ८, ८)। २ एक महौषधि (ती ५)। विहार पुं [विहार] गुजरात के भरोच शहर का एक प्राचीन जैन मन्दिर (ती ८)।

सउह पुं [सौध] १ राज-महल, राज-प्रासाद (कुमा)। २ न. हवा, चाँदी। ३ पुं. पापाण-

विशेष। ४ वि. सुवा-संबन्धी, प्रमृत का (चंड; हे १, १६२)।

सएज्जिअ देखो सइज्जिअ (कुप्र १६३)।

सओस देखो स-ओस = स-तोष-स-दोष।

सं अ [शम्] सुख, शर्म (स ६११; सुर १६, ४२; सुपा ४१६)।

सं अ [सम्] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ प्रकर्ष। अतिशय (धर्मसं ८६७)। २ संगति। ३ सुन्दरता, शोभनता। ४ समुच्चय। ५ योग्यता, व्याजवीचन (पड्)।

संक सक [शङ्क] १ संशय करना, संदेह करना। २ अक. भय करना, डरना। संकइ, संकए, संकति; संकसि, संकसे, संकह, संकत्य; संकामि, संकामो, संकामु, संकाम (संज्ञि ३०); 'असंक्राइ संकति' (सुस १, १, २, १०; ११), "जं सम्ममुजमंताण पाणि (१णी) एं संकए हु विही" (तिरि ६६६)। कम. संकिज्जइ (गा ५०६)। वक्क. संकंत, संकमाण (पव; रंभा ३३)। क. संकगिज्ज (उप ७२८ टी)।

संकंत वि [संक्रान्त] १ प्रतिविम्बित (गा १; से १, ५७)। २ प्रविष्ट, घुसा हुआ (ठा ३, ३; कप्प; महा)। ३ प्राप्त। ४ संक्रमण-कर्ता। ५ संक्रान्ति-युक्त। ६ पिता आदि से दाय रूप से प्राप्त व्री का वन (प्राप्र)।

संकंति व्री [संक्रान्ति] १ संक्रमण, प्रवेश (पव १५५; अज्ज १५३)। २ सूर्य आदि का एक राशि से दूसरी राशि में जाना; 'आरव्भ ककसंकंतिदिवसओ दिवसनाहु व' (धर्मवि ६६)।

संकंदण पुं [संक्रन्दन] इन्द्र, देवाधीश (उप ५३० टी; उपप १)।

संकट्टिअ वि [संकर्तित] काटा हुआ; 'वत्त-संकट्टितमाण' (ठा ४, ४—पत्र २७६)।

संकट्ट वि [संकट्ट] व्याप्त (राज)।

संकट्ट देखो संकिट्ट (राज)।

संकड वि [संकट] १ संकीर्ण, कम-चौड़ा, अल्प अवकाशवाला (स ३६२; सुपा ४१६; उप ८३३ टी)। २ विषम, गहन (विड ६३४)। ३ न. दुःख;



‘वन्नाएवि ते वन्ना  
पुरित्ता निस्सीमत्तिसंजुत्ता ।  
जे विसमसंकडेसुवि पडियावि  
चर्यति एो वम्मं ॥’  
(रयण ७३) ।

संकडिय वि [संकटित] संकीर्ण किया हुआ  
(कुप्र ३६०) ।

संकडिल्ल वि [दे] निरिच्छद्र, छिद्र-रहित (दे  
न. १५; सुर ४, १४३) ।

संकडिहय वि [संकपित्त] आकपित (राज) ।

संकण न [शङ्कन] शंका, संदेह (दत्त ६,  
५६) ।

संकपप पुं [संकल्प] १ अथ्यवसाय, मनः-  
परिणाम, विचार (उवा; कप्प; उप १०३५) ।  
२ संगत आचार, सदाचार (उप १०३५) ।  
३ अभिलाष, चाह (गउड) । ४ जोगि पुं  
[‘योनि] कामदेव, कंदर्प (पात्र) ।

संकम सक [सं + क्रम] १ प्रवेश करना ।  
२ गति करना, जाना । संकमइ, संकमति  
(पिड १०८; सूत्र २, ४, १०) । वड्ड.  
संकममाण (सम ३६; सुज्ज २, १; रंभा) ।  
हेहू. संकमित्तए (कस) ।

संकम पुं [संक्रम] १ सेतू, पुल, जल पर से  
उतरने के लिए काष्ठ आदि से बांधा  
हुआ मार्ग (सि ६, ६५; दस ५, १, ४;  
परह १, १) । २ संचार; गमन, गति;  
‘पाउल्लाई संकमट्टाए’ (सूत्र १, ४, २, १५;  
आवक २२३) । ३ जीव जिस कर्म-प्रकृति  
को वाचता हो उसी रूप से अन्य प्रकृति के  
दल को प्रयत्न द्वारा परिणामाना; वैंवो जाती  
कर्म-प्रकृति में अन्य कर्म-प्रकृति के दल को  
डाल कर उसे वैंवो जाती कर्म-प्रकृति के रूप  
से परिणत करना (ठा ४, २—पत्र २२०) ।

संकमग वि [संक्रामक] संक्रमण-कर्ता  
(धर्मसं १३३०) ।

संकमण न [संक्रमण] १ प्रवेश; ‘नवरं  
मुत्तए धरं धरसंकमणं कयं तेहि’ (संबोध  
१४) । २ संचार, गमन (प्रातू १०५) । ३  
चारित्र, संयम (आचा) । ४ देखो संकम का  
तौमरा अर्थ (पंच ३, ४८) । ५ प्रतिविम्बन  
(गउड) ।

संकर पुं [दे] रथ्या, मुह्ला (दे न, ६) ।

संकर पुं [शङ्कर] १ शिव, महादेव (पउम  
५, १२२; कुमा; सम्मत्त ७६) । २ वि.  
सुख करनेवाला (पउम ५, १२२; दे १,  
१७७) ।

संकर पुं [संकर] १ मिलावट, मिश्रण  
(परह १, ५—पत्र ६२) । २ न्यायशास्त्र-  
प्रसिद्ध एक दोष (उवर १७६) । ३ शुभाशुभ-  
रूप मिश्र भाव (सिरि ५०६) । ४ अशुचि-  
पुंज, कचरे का ढेर (उत्त १२, ६) ।

संकरण न [संकरण] अच्छी कृति (संबोध  
६) ।

संकरिसण पुं [संकर्पण] भारतवर्ष का भावी  
नववां बलदेव (सम १५४) ।

संकरो वी [शङ्करी] १ विद्या-विशेष (पउम  
७, १४२; महा) । २ देवी-विशेष । ३ सुख  
करनेवाली (गउड) ।

संकल सक [सं + कलय] संकलन करना,  
जोड़ना । संकलेइ (उव) ।

संकल पुंन [शृङ्खल] १ सांकल, निगड़ ।  
२ लोहे का बना हुआ पाद-बन्धन, वेड़ी  
(विपा १, ६—पत्र ६६, धर्मवि १३६;  
सम्मत्त १६०; हे १, १८६) । ३ सिकड़ी,  
आमूषण-विशेष (सिरि ८११) ।

संकलण न [संकलन] मिश्रता, मिलावट  
(माल ८७) ।

संकला वी [शृङ्खल] देखो संकल = शृङ्खल  
(स १७१; सुपा २६१; प्राप) ।

संकलिअ वि [संकलित] १ एकत्र किया  
हुआ (उप पृ ३४१; तंदु २) । २ युक्त;  
‘तत्य थ भमिओ तं पुण कायट्टिईकालसंक्षसं-  
कलियो’ (सिक्खा १०) । ३ योजित, जोड़ा  
हुआ (सिरि १३४०) । ४ संगृहीत (उव) ।  
५ न. संकलन, कुल जोड़ (वव १) ।

संकलिआ वी [संकलिका] १ परंपरा  
(पिड २३६) । २ संकलन । ३ सूत्रकृतांग  
सूत्र का पनरहवां ग्रन्थयन (राज) ।

संकलिआ } वी [शृङ्खलिका, ‘ली] सांकल,  
संकली } सिकड़ी, जंजीर, निगड़ (सूत्र  
१, ५, २, २०; प्रामा) ।

संकहा वी [संकथा] संभाषण, वार्तालाप  
(पउम ७, १५८; १०६, ६; सुर ३, १२६;  
उप पृ ३७८; पिड १६४) ।

संका वी [शङ्का] १ संशय, संदेह (पिड) ।  
२ भय, डर (कुमा) । ३ लुअ वि [‘वत्’]  
शंकावाला, शंका-युक्त (गउड) ।

संक्राम देखो संकम = सं + क्रम । संक्रामइ  
(सुज्ज २, १; पंच ५, १४७) ।

संक्राम सक [सं + क्रमय] संक्रम करना,  
वैंवो जाती कर्म-प्रकृति में अन्य प्रकृति के  
कर्म-दलों को प्रक्षिप्त कर उस रूप से परिणत  
करना । संक्रामेति (भग) । भूका, संक्रामिउ;  
(भग) । भवि. संक्रामेस्सति (भग) । कवंक.  
संक्रामिज्जमाण (ठा ३, १—पत्र १२०) ।

संक्रामण न [संक्रमण] १ संक्रम-करण  
(भग) । २ प्रवेश कराना (कुप्र १४०) ।  
३ एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना  
(पंचा ७, २०) ।

संक्रामणा वी [संक्रमणा] संक्रमण, पैठ  
(पिड २८) ।

संक्रामणी वी [संक्रमणी] विद्या-विशेष,  
जिससे एक से दूसरे में प्रवेश किया जा सके  
वह विद्या (गाया १, १६—पत्र २१३) ।

संक्रामिय वि [संक्रमित] एक स्थान से  
दूसरे स्थान में नीत (राज) ।

संकार देखो सकार = संस्कार (धर्मसं ३५४) ।

संकास वि [संकाश] १ समान, तुल्य, सरोखा  
(पात्र; गाया १, ५; उत्त ३४, ४; ५; ६;  
कप्प; पंच ३, ४०; धर्मवि १४६) । २ पुं.  
एक थावक का नाम (उप ४०३) ।

संकासिया वी [संकाशिका] एक जैन मुनि-  
शाखा (कप्प) ।

संकि वि [शङ्किन्] शंका करनेवाला (सूत्र  
१, १, २, ६; गा ८७३; संबोध ३४;  
गउड) ।

संकिअ वि [शङ्कित] १ शंकावाला, शंका-  
युक्त (भग; उवा) २ न. संशय, संदेह (पिड  
४६३; महा ६८) । ३ भय, डर (गा ३३३);  
‘संकिअमवि नेव वनिअस्स’ (आ १४) ।

संकिट्ट वि [संकिट्ट] विलिखित, जोता हुआ,  
खेती किया हुआ (श्रीप; गाया १, १ टी—  
पत्र १) ।

संक्रिडू देखो संक्रिलिडू (राज) ।

संक्रिण्ण वि [संकीर्ण] १ सँकरा, तंग, अल्पा-  
वकाशवाला (पात्र; महा) । २ व्याप्त (राज) ।  
३ मिश्रित; मिला हुआ (ठा ४, २; भग २५,  
७ टी—पत्र ११६) । ४ पुं. हाथी की एक  
जाति (ठा ४, २—पत्र २०८) ।

संक्रित देखो संक्रिअ (गाथा १, ३—पत्र  
६४) ।

संक्रित्तण न [संकीर्तन] उच्चारण (स्वप्न  
१७) ।

संक्रिन्न देखो संक्रिण्ण (ठा ४, २; भग  
२५, ७) ।

संक्रि वि [शङ्कित] शङ्का करने की आदत  
वाला, शंकाशील (गा २०६; ३३३; ५८२;  
सुर १२, १२५; सुपा ४६८) ।

संक्रिलिडू वि [संक्रिष्ट] संक्लेश-युक्त,  
संक्लेशवाला (उव श्रौष; पि १३६) ।

संक्रिलिस्स अक [सं + क्लिस्] १ क्लेश-  
पाना, दुःखी होना । २ मलिन होना । संक्रि-  
लिस्सइ, संक्रिलिस्संति (उत्त २६, ३४; भग;  
श्रौष) । वक्र. संक्रिलिस्समाण (भग १३,  
१—पत्र ५६६) ।

संक्रिलेस पुं [संक्लेश] १ असमाधि, दुःख,  
कष्ट, हैरानी (ठा १०—पत्र ४८९; उव) ।  
२ मलिनता, अविशुद्धि (ठा ३, ४—पत्र  
१५६; पंचा १५, ४) ।

संक्रिलिअ वि [संकीलित] कील लगाकर  
जोड़ा हुआ (से १४, २८) ।

संक्रु पुं [शङ्क] १ शल्य अस्त्र । २ कौलक,  
छँटा, कील; 'श्रंतोनिविट्टुसंक्रुव्व' (कुप्र ४०२;  
राय ३०; आवम) । कण्ण न [कण्ण] एक  
विद्याधर-नगर (इक) ।

संक्रुइय वि [संक्रुचित] १ सकुचा हुआ,  
संकोच-प्राप्त (श्रौष; रंभा) । २ न. संकोच  
(राज) ।

संक्रुक पुं [शङ्कुक] वैताल्य पर्वत की उत्तर  
श्रेणी का एक विशाधर-निकाय (राज) ।

संक्रुका स्त्री [शङ्कुका] विद्या-विशेष (राज) ।

संक्रुच अक [सं + कुच्] सकुचना, संकोच  
करना । संक्रुचए (आचा; संबोध ४७) वक्र.  
संक्रुचमाण, संक्रुचेमाण (आचा) ।

संक्रुचिय देखो संक्रुइय (वस ४, १) ।

संक्रुड वि [संक्रुट] सँकरा, संकीर्ण, संक्रुचित;  
'श्रंतो य संक्रुडा वाहि वित्थडा चंदसुराण'  
(सुज्ज १६) ।

संक्रुडिअ वि [संक्रुटित] सकुचा हुआ, संक्रु-  
चित (भग ७, ६—पत्र ३०७; धर्मसं ३८७;  
स ३५८; सार ७८६) ।

संक्रुद्ध वि [संक्रुद्ध] क्लोव-युक्त (वज्जा १०) ।  
संक्रुय देखो संक्रुच । संक्रुयइ (वज्जा ३०) ।  
वक्र. संक्रुयंत (वज्जा ३०) ।

संक्रुल वि [संक्रुल] व्याप्त, पूर्ण भरा हुआ  
(से १, ५७; उव; महा; स्वप्न ५१; धर्मवि  
५५; प्रासू १०) ।

संक्रुलि } देखो सक्कुलि (पि ७४; ठा ४,  
संक्रुली } ४—पत्र २२६; पव २६२; आचा  
२, १, ४, ५) ।

संक्रुसुमिअ वि [संक्रुसुमित] अच्छी तरह  
पुष्पित (राय ३८) ।

संक्रेअ सक [सं + केतय] १ इशारा  
करना । २ मसलहत करना । संक्र. संक्रेइय  
जोगिणिएमंग' (सम्मत्त २१८) ।

संक्रेअ पुं [संकेत] १ इशारा, इंगित (सुपा  
४१५; महा) । २ प्रिय-समागम का  
युक्त स्थान (गा ६२६; गडड) । ३ वि.  
चिह्न-युक्त । ४ न. प्रत्याख्यान-विशेष (आव) ।  
संक्रेअ वि [साङ्केत] १ संकेत-संबन्धी । २  
न. प्रत्याख्यान-विशेष (पव ४) ।

संक्रेइअ वि [संकेतित] संकेत-युक्त (था  
१४; धर्मवि १३४; सम्मत्त २१८) ।

संक्रेहिअ वि [दे] सकेला हुआ, संक्रुचित  
किया हुआ (गा ६६४) ।

संक्रेस देखो संक्रिलेस (उप ३१२; कम्म  
५, ६३) ।

संक्रोअ सक [सं + क्रोचय] संक्रुचित  
करना । वक्र. संक्रोअंत (सम्मत्त २१७) ।

संक्रोअ पुं [संक्रोच] संकोच, सिमट (राय  
१४० टी; धर्मसं ३६५; संबोध ४७) ।

संक्रोअण न [संक्रोचन] संकोच, सकुचाना  
(दे ५, ३१; भग; सुर १, ७६; धर्मवि  
१०१) ।

संक्रोइय वि [संक्रोचित] संक्रुचित किया  
हुआ, सकेला हुआ (उप ७२८ टी) ।

संक्रोड पुं [संक्रोट] सकोड़ना, संकोच (परह  
१, ३—पत्र ५३) ।

संक्रोडणा स्त्री [संक्रोटना] ऊपर देखो  
(राज) ।

संक्रोडिय वि [संक्रोटित] सकोड़ा हुआ,  
संक्रोचित (परह १, ३—पत्र ५३; विपा  
१, ६—पत्र ६८; स ७४१) ।

संख पुंन [शङ्ख] १ वाद्य-विशेष, शंख (एदि;  
राय; जी १५; कुमा; दे १, ३०) । २ पुं.  
ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८) ।  
३ महाविदेह वर्ष का प्रान्त-विशेष, विजय-  
क्षेत्र विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) । ४ नव  
निधि में एक निधि, जिसमें विविध तरह के  
वाजों की उत्पत्ति होती है (ठा ६—पत्र  
४४६; उप ६८६ टी) । ५ लवण समुद्र में  
स्थित वेलन्धर-नागराज का एक आवास-पर्वत  
(ठा ४, २—पत्र २२६; सम ६८) । ६ उक्त  
आवास-पर्वत का अविष्ठाता एक देव (ठा ४,  
२—पत्र २२६) । ७ भगवान् मल्लिनाथ के  
समय का काशी का एक राजा (गाथा १,  
८—पत्र १४१) । ८ भगवान् महावीर के  
पास दीक्षा लेनेवाला एक काशी-नरेश (ठा  
८—पत्र ४३०) । ९ तीर्थकर-नामकर्म उपा-  
जित करनेवाला भगवान् महावीर का एक  
श्रावक (ठा ६—पत्र ४५५; सम १५४; पव  
४६; विचार ४७७) । १० नववें बलदेव का  
पूर्वज-मीय नाम (पउम २०, १६१) । ११  
एक राजा (उप ७३६) । १२ एक राज-मुत्र  
(सुपा ५६६) । १३ रावण का एक सुभट  
(पउम ५६, ३४) । १४ छन्द-विशेष (पिग) ।  
१५ एक द्वीप । १६ एक समुद्र । १७ शंखवर  
द्वीप का एक अविष्ठायक देव (दीव) । १८  
पुंन. ललाट की हड्डी (धर्मवि १७; हे १,  
१०) । १९ नखी नामका एक गन्ध-द्रव्य ।  
२० कान के समीप की एक हड्डी । २१ एक  
नाग-जाति । २२ हाथी के दांत का मध्य  
भाग । २३ संख्या-विशेष, दस निखर्व की  
संख्यावाला (हे १, ३०) । २५ श्रांख के  
समीप का अवयव (गाथा १, ८—पत्र  
१३३) । उर देखो 'पुर (ती ३; महा) ।

१० नववें बलदेव का  
पूर्वज-मीय नाम (पउम २०, १६१) । ११  
एक राजा (उप ७३६) । १२ एक राज-मुत्र  
(सुपा ५६६) । १३ रावण का एक सुभट  
(पउम ५६, ३४) । १४ छन्द-विशेष (पिग) ।  
१५ एक द्वीप । १६ एक समुद्र । १७ शंखवर  
द्वीप का एक अविष्ठायक देव (दीव) । १८  
पुंन. ललाट की हड्डी (धर्मवि १७; हे १,  
१०) । १९ नखी नामका एक गन्ध-द्रव्य ।  
२० कान के समीप की एक हड्डी । २१ एक  
नाग-जाति । २२ हाथी के दांत का मध्य  
भाग । २३ संख्या-विशेष, दस निखर्व की  
संख्यावाला (हे १, ३०) । २५ श्रांख के  
समीप का अवयव (गाथा १, ८—पत्र  
१३३) । उर देखो 'पुर (ती ३; महा) ।

१० नववें बलदेव का  
पूर्वज-मीय नाम (पउम २०, १६१) । ११  
एक राजा (उप ७३६) । १२ एक राज-मुत्र  
(सुपा ५६६) । १३ रावण का एक सुभट  
(पउम ५६, ३४) । १४ छन्द-विशेष (पिग) ।  
१५ एक द्वीप । १६ एक समुद्र । १७ शंखवर  
द्वीप का एक अविष्ठायक देव (दीव) । १८  
पुंन. ललाट की हड्डी (धर्मवि १७; हे १,  
१०) । १९ नखी नामका एक गन्ध-द्रव्य ।  
२० कान के समीप की एक हड्डी । २१ एक  
नाग-जाति । २२ हाथी के दांत का मध्य  
भाग । २३ संख्या-विशेष, दस निखर्व की  
संख्यावाला (हे १, ३०) । २५ श्रांख के  
समीप का अवयव (गाथा १, ८—पत्र  
१३३) । उर देखो 'पुर (ती ३; महा) ।

१० नववें बलदेव का  
पूर्वज-मीय नाम (पउम २०, १६१) । ११  
एक राजा (उप ७३६) । १२ एक राज-मुत्र  
(सुपा ५६६) । १३ रावण का एक सुभट  
(पउम ५६, ३४) । १४ छन्द-विशेष (पिग) ।  
१५ एक द्वीप । १६ एक समुद्र । १७ शंखवर  
द्वीप का एक अविष्ठायक देव (दीव) । १८  
पुंन. ललाट की हड्डी (धर्मवि १७; हे १,  
१०) । १९ नखी नामका एक गन्ध-द्रव्य ।  
२० कान के समीप की एक हड्डी । २१ एक  
नाग-जाति । २२ हाथी के दांत का मध्य  
भाग । २३ संख्या-विशेष, दस निखर्व की  
संख्यावाला (हे १, ३०) । २५ श्रांख के  
समीप का अवयव (गाथा १, ८—पत्र  
१३३) । उर देखो 'पुर (ती ३; महा) ।

१० नववें बलदेव का  
पूर्वज-मीय नाम (पउम २०, १६१) । ११  
एक राजा (उप ७३६) । १२ एक राज-मुत्र  
(सुपा ५६६) । १३ रावण का एक सुभट  
(पउम ५६, ३४) । १४ छन्द-विशेष (पिग) ।  
१५ एक द्वीप । १६ एक समुद्र । १७ शंखवर  
द्वीप का एक अविष्ठायक देव (दीव) । १८  
पुंन. ललाट की हड्डी (धर्मवि १७; हे १,  
१०) । १९ नखी नामका एक गन्ध-द्रव्य ।  
२० कान के समीप की एक हड्डी । २१ एक  
नाग-जाति । २२ हाथी के दांत का मध्य  
भाग । २३ संख्या-विशेष, दस निखर्व की  
संख्यावाला (हे १, ३०) । २५ श्रांख के  
समीप का अवयव (गाथा १, ८—पत्र  
१३३) । उर देखो 'पुर (ती ३; महा) ।

१० नववें बलदेव का  
पूर्वज-मीय नाम (पउम २०, १६१) । ११  
एक राजा (उप ७३६) । १२ एक राज-मुत्र  
(सुपा ५६६) । १३ रावण का एक सुभट  
(पउम ५६, ३४) । १४ छन्द-विशेष (पिग) ।  
१५ एक द्वीप । १६ एक समुद्र । १७ शंखवर  
द्वीप का एक अविष्ठायक देव (दीव) । १८  
पुंन. ललाट की हड्डी (धर्मवि १७; हे १,  
१०) । १९ नखी नामका एक गन्ध-द्रव्य ।  
२० कान के समीप की एक हड्डी । २१ एक  
नाग-जाति । २२ हाथी के दांत का मध्य  
भाग । २३ संख्या-विशेष, दस निखर्व की  
संख्यावाला (हे १, ३०) । २५ श्रांख के  
समीप का अवयव (गाथा १, ८—पत्र  
१३३) । उर देखो 'पुर (ती ३; महा) ।

१० नववें बलदेव का  
पूर्वज-मीय नाम (पउम २०, १६१) । ११  
एक राजा (उप ७३६) । १२ एक राज-मुत्र  
(सुपा ५६६) । १३ रावण का एक सुभट  
(पउम ५६, ३४) । १४ छन्द-विशेष (पिग) ।  
१५ एक द्वीप । १६ एक समुद्र । १७ शंखवर  
द्वीप का एक अविष्ठायक देव (दीव) । १८  
पुंन. ललाट की हड्डी (धर्मवि १७; हे १,  
१०) । १९ नखी नामका एक गन्ध-द्रव्य ।  
२० कान के समीप की एक हड्डी । २१ एक  
नाग-जाति । २२ हाथी के दांत का मध्य  
भाग । २३ संख्या-विशेष, दस निखर्व की  
संख्यावाला (हे १, ३०) । २५ श्रांख के  
समीप का अवयव (गाथा १, ८—पत्र  
१३३) । उर देखो 'पुर (ती ३; महा) ।

विशेष (पिंग) । °धमग पुं [°ध्मायक] वानप्रस्थ की एक जाति (राज) । °वर पुं [°धर] श्रीकृष्ण, विष्णु (कुमा) । °पाल देखो °वाल (ठा ४, १—पत्र १६७) । °पुर न [°पुर] १ एक विद्यावर-नगर (इक) । २ नगर-विशेष जो आजकल गुजरात में संखे-वर के नाम से प्रसिद्ध है (राज) । °पुरी स्त्री [°पुरी] कुर्जंगल देश की प्राचीन राजधानी, जो पीछे से अहिच्छत्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी (तिरि ७८) । °माल पुं [°माल] वृक्ष की एक जाति (जीव ३—पत्र १४५) । °वण न [°वण] एक उद्यान का नाम (उवा) । °वण्णाभ पुं [°वर्णाभ] ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष (सुज्ज २०) । °वन्न पुं [°वर्ण] ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८) । °वन्नाभ देखो °वण्णाभ (ठा २, ३—पत्र ७८) । °वर पुं [°वर] १ एक द्वीप । २ एक समुद्र (दीव; इक) । °वरोभास पुं [°वरावभास] १ एक द्वीप । २ एक समुद्र (दीव) । °वाल पुं [°पाल] नाग-कुमार-देवों के वरण और भूतानन्द नामक इन्द्रों के एक एक लोकपाल का नाम (इक) । °वाल्य पुं [°पालक] १ जैनतर दर्शन का अनुयायी एक व्यक्ति (भग ७, १०—पत्र ३२३) । एक आजीविक मत का एक उपासक (भग ८, ५—पत्र ३७०) । °लाय वि [°वत्] शंखवाला (साया १, ८—पत्र १३३) । °वई स्त्री [°वती] नगरी-विशेष (ती ५) । संख वि [संख्य] संख्यात, गिना हुआ, गिनती-वाला (कम्म ४, ३६; ४१) । संख न [संख्य] १ दर्शन-विशेष, कपिलमुनि-प्रणीत दर्शन (साया १, ५—पत्र १०५; सुपा ५६६) । २ वि. सांख्य मत का अनुयायी (श्रौप; कुप्र २३) । संख पुं [दे] मागध, स्तुति-पाठक (दे ८, २) । संखइम वि [संख्येय] जिसकी संख्या हो सके वह (विसे ६७०; अणु ११ टी) । संखड न [दे] कलह, झगड़ा (पिड ३२४; श्रौप १५७) । संखडि स्त्री [दे] १ विवाह आदि के उपलक्ष्य में नात-नातेदार आदि को दिया जाता भोज,

जेवनार (आचा २, १, २, ४; २, १, ३, १; २; ३; पिड २२८; श्रौप १२; ८८; भास ६२) । संखडि स्त्री [संस्कृति] श्रोतन-पाक (कप्प) । संखणग पुं [शङ्खनक] छोटा शंख (उत्त ३६, १२६; पण्ण १—पत्र ४४; जीव १ टी—पत्र ३१) । संखद्रह पुं [दे] गोदावरी नदी (दे ८, १४) । संखवइह पुं [दे] कृपक की इच्छानुसार उठ कर खड़ा होनेवाला बैल (दे ८, १६) । संखम वि [संक्षम] समर्थ (उप ६८६ टी) । संखय पुं [संक्षय] क्षय, विनाश (से ६, ४२) । संखय वि [संस्कृत] संस्कार-युक्त; 'साय संखयमाहु जीविय' (सूत्र १, २, २, २१; १, २, ३, १०; पि ४६), 'असंखयं जीविय मा पमायए' (उत्त ४, १) । संखलय पुं [दे] शम्भूक, शुक्ति के आकार-वाला जल-जन्तु विशेष (दे ८, १८) । संखला देखो संकला (गडड; ग्रामा) । संखलि पुं स्त्री [दे] कर्ण-भूषण विशेष, शंख-पत्र का बना हुआ तांडक (दे ८, ७) । संखय सक [सं + क्षपय] विनाश करना । संख. संखवियाण (उत्त २०, ५२) । संखविअ वि [संक्षपित] विनाशित (अच्छु ८) । संखा सक [सं + ख्या] १ गिनती करना । २ जानना । संख. संखाय (सूत्र १, २, २, २१) । क. संखिज्ज, संखेज्ज (उत्त; जी ४१; उव; कप्प) । संखा अक [सं + ख्ये] १ आवाज करना । २ संहत होना, सान्द्र होना, निविड़ बनना । संखाइ, संखाअइ (हे ४, १५; पड) । संखा स्त्री [संख्या] १ प्रज्ञा, बुद्धि (आचा १, ६, ४, १) । २ ज्ञान (सूत्र १, १३, ८) । ३. निर्णय (अणु) । ४ गिनती, गणना (भग; अणु; कप्प; कुमा) । ५ व्यवस्था (सूत्र २, ७, १०) । ईअ वि [°तीत] असंख्य (भग १, १ टी; जीव १ टी—पत्र १३; आ ४१) । °दत्तिय वि [°दत्तिक] उत्तनी ही भिक्षा

लेने का व्रतवाला संयमी; जितनी कि अमुक गिने हुए प्रलेपों में प्राप्त हो जाय (ठा २, ४—पत्र १००; ५, १—पत्र २६६; श्रौप) । संखाण न [संख्यान] १ गिनती, गणना, संख्या । २ गणित-शास्त्र (ठा ४, ४—पत्र २६३; भग; कप्प; श्रौप; पचम ८५, ६; जीवस १३५) । संखाय वि [संस्थान] १ सान्द्र, सघन, निविड़ (कुमा ६, ११) । २ आवाज करनेवाला । ३ संहत करनेवाला । ४ न. स्नेह । ५ निविड़-पन । ६ संहति, संघात । ७ आलस्य । ८ प्रतिशब्द, प्रतिवचन (हे १, ७४; ४, १५) । संखाय देखो संखा = सं + ख्या । संखाय वि [संखाय] संख्या-युक्त (सूत्र १, १३, ८) । संखायण न [शाङ्खायन] गोत्र-विशेष (सुज्ज १०, १६; इक) । संखाल पुं [दे] हरिया की एक जाति, सांबर मृग (दे ८, ६) । संखालग देखो संखालग = शङ्ख-वत् । संखावई देखो संखावई = शङ्खावती । संखाविय वि [संख्यापित] जिसकी गिनती कराई गई हो वह (सुपा ३६२; स ४१६) । संखिग देखो संखिय = शाङ्खिक (स १७३; कुप्र १४६) । संखिज्ज देखो संखा = सं + ख्या । संखिज्जइ वि [संख्येयतम] संख्यातर्वा (अणु ६१) । संखित्त वि [संक्षिप्त] संक्षेप-युक्त, छोटा किया हुआ (उवा; दं ३; जी ५१) । संखिय वि [शाङ्खिक] १ मंगल के लिए चन्दन-नामित शंख को हाथ में धारण करने-वाला । शंख वजानेवाला (कप्प; श्रौप) । संखिय देखो संख = संख्य (स ४४१; पंच २, ११; जीवस १४६) । संखिया स्त्री [शाङ्खिका] छोटा शंख (जीव ३—पत्र १४६; जं २ टी—पत्र १०१; राय ४५) । संखुडु अक [रम्] क्रीड़ा करना, संभोग करना । संखुडुइ (हे ४, १६८) ।

संखुडुग न [रमण] क्रीड़ा, सुरत-क्रीड़ा (कुमा) ।

संखुत्त (अप) नीचे देखो (भवि) ।

संखुद्ध वि [संक्षुद्ध] क्षोभ-प्राप्त (स ५६८; ६७४; सम्मत १५६; सुपा ५१७; कुप्र १७४) ।

संखुभिअ } वि [संक्षुद्ध, संक्षुभित]  
संखुहिअ } ऊपर देखो (सम १२५, पव २७२; पठम ३३, १०६; वि ३१६) ।

संखेज्ज देखो संखा = सं + ख्या ।

संखेज्जइ } देखो संखिज्जइ (अणु ६१;  
संखेज्जइम } विसे ३६०) ।

संखेत्त देखो संखित्त (ठा ४, २—पत्र २२६; चेइय ३२५) ।

संखेव पुं [संक्षेप] १ अल्प, कम, थोड़ा (जी २५; ५१) । २ मिड, संघात, संहति (ओधभा १) । ३ स्थान; 'तेरसमु जीवसंखेत्तएसु' (कम्म ६, ३५) । ४ सामायिक, सम-भाव से अवस्थान (विसे २७६६) ।

संखेवण न [संक्षेपण] अल्प करना, न्यून करना (नव २८) ।

संखेवाय वि [संक्षेपिक] संक्षेप-युक्त । 'दसा ली, व. [दशा] जैन ग्रन्थ-विशेष (ठा १०—पत्र ५०५) ।

संखोभ } सक [सं + क्षोभय्] क्षुब्ध  
संखोह } करना । संखोहइ (भवि) । कवच.  
संखोभिज्जमाण (खाया १, ६—पत्र १५६) ।

संखोह पुं [संक्षोभ] १ भय आदि से उत्पन्न चित्त की व्यग्रता, क्षोभ (उव; सुर २, २२; उपपृ १३१; गु ३; त्रि ६४; गठड) । २ चंचलता (गठड) ।

संखोहिअ वि [संक्षोभित] क्षुब्ध किया हुआ; क्षोभ-युक्त किया हुआ (से १, ४६; अग्नि ६०) ।

संग न [शृङ्ग] १ सींग, विषाण (धर्मसं ६३; ६४) । २ उत्कर्ष (कुमा) । ३ पर्वत के ऊपर का भाग, शिखर । ४ प्रधानता, मुख्यता । ५ वाद्य-विशेष । ६ काम का उद्रेक (हे १, १३०) । देखो सिंग = शृङ्ग ।

संग न [शृङ्ग] शृङ्ग-संबन्धी (विसे २८६) ।  
संग पुंन [सङ्ग] १ संपर्क, संबन्ध (आचा; महा; कुमा) । २ सोहवत; 'तह हीणायारज-इणसंगं सङ्गाण पडिसिद्धं' (संबोध ३६; आचा; प्रसू ३०) । ३ आसक्ति, विषयादि-राग (गठड; आचा; उव) । ४ कर्म, कर्म-बन्ध (आचा) । ५ बन्धन; 'भोगा इमे संगकरा हवन्ति' (उत्त १३, २७) ।

संगइ ली [संगति] १ औचित्य, उचितता (सुपा ११०) । २ मेल (भवि) । ३ नियति (सूत्र १, १, २, ३) ।

संगइअ वि [साङ्गतिक] १ नियति-कृत, नियति-संबन्धी (सूत्र १, १, २, ३) । २ परिचित; 'मुही ति वा सहाए ति वा संग(गइ)ए ति वा' (ठा ४, ३—पत्र २४३; राज) ।

संगंथ पुं [संग्रन्थ] १ स्वजन का स्वजन, संगे का सगा (आचा) । २ संबन्धी, धशुर-कुल से जिसका संबन्ध हो वह (परह २, ४—पत्र १३२) ।

संगच्छ सक [सं + गम्] १ स्वीकार करना । २ अक. संगत होना, मेल रखना । संगच्छइ (चेइय ७७६; पड्), संगच्छह (स १६) । कृ. संगमणीअ (नाट—विक्र १००) ।

संगच्छण न [संगमन] स्वीकार, अंगीकार (उप ६३०) ।

संगम पुं [संगम] १ मेल, मिलाप (पात्र; महा) । २ प्राप्ति; 'सग्गापवग्गसंगमहेऊ जिण-देसिअो धम्मो' (महा) । ३ नदी-मीलक, नदियों का आपस में मिलान (खाया १, १—पत्र ३३) । ४ एक देव का नाम (महा) । ५ ली-पुरुष का संभोग (हे १, १७७) । ६ एक जैन मुनि का नाम (उव) ।

संगमय पुं [संगमक] भगवान् महावीर को उपसर्ग करनेवाला एक देव (चेइय २) ।

संगमी ली [संगमी] एक दूती का नाम (महा) ।

संगय वि [दे] मछण, चिकना (दे ८, ७) ।  
संगय न [संगत] १ मिश्रता, मैत्री (सुर ६, २०६) । २ संग, सोहवत (उव; कुप्र १३४) । ३ पुं. एक जैन मुनि का नाम (पुष्क १८२) । ४ वि. युक्त, उचित (विपा १, २—पत्र

२२) । ५ मिलित, मिला हुआ (प्रामू ३१; पंचा १, १; महा) ।

संगयय न [संगतक] छद्म-विशेष (अजि ७) ।

संगर देखो संकर = संकर (विसे २८८४) ।

संगर न [संगर] युद्ध, रण, लड़ाई (पात्र; काप्र १६३; कुप ७३; धर्मवि ६३; हे ४, ३४५) ।

संगरिगा ली [दे] फली-विशेष, जिसकी तरकारी होती है; सांगरी (पव ४—गाथा २२६) ।

संगल सक [सं + घटय्] मिलना, संघटित करना । संगलइ (हे ४, ११३) । संक. संगलिअ (कुमा) ।

संगल अक [सं + गल्] गल जाना, होन होना । वच. संगलंत्त (से १०, ३४) ।

संगलिया ली [दे] फली, फलिया, छीमी (भग १५—पत्र ६८०; अनु ४) ।

संगह सक [सं + ग्रह्] १ संचय करना । २ स्वीकार करना । ३ आश्रय देना । संगहइ (भवि) । भवि. संगहिस्सं (मोह ६३) ।

संगह पुं [दे] घर के ऊपर का तिरछों काठ (दे ८, ४) ।

संगह पुं [संग्रह] १ संचय, इकट्ठा करना, बटोरना (ठा ७—पत्र ३८५; वव ३) । २ संक्षेप, समास (पात्र; ठा ३, १ टी—पत्र ११४) । ३ उपधि, वस्त्र आदि का परिग्रह (ओध ६६६) । ४ नय-विशेष, वस्तु-परीक्षा का एक दृष्टिकोण, सामान्य रूप से वस्तु को देखना (ठा ७—पत्र ३६०; विसे २२०३) । ५ स्वीकार, ग्रहण (ठा ८—पत्र ४२२) । ६ कष्ट आदि में सहायता करना (ठा १०—पत्र ४६६) । ७ वि. संग्रह करनेवाला (वव ३) । ८ न. नक्षत्र-विशेष, बुध ग्रह से आक्रान्त नक्षत्र (वव १) ।

संगहण न [संग्रहण] संग्रह (विसे २२०३; संबोध ३७; महा) । 'गाहा ली [गाथा] संग्रह-गाथा (कप्प ११८) । देखो संगिण्हण ।

संगहणि ली [संग्रहणि] संग्रह-ग्रन्थ, संक्षिप्त रूप से पदार्थ-प्रतिपादक ग्रंथ, सार-संग्राहक ग्रन्थ (संग १; धर्मसं ३) ।

संगहिअ वि [संग्रहिक] संग्रहवाला, संग्रह-  
नय को माननेवाला (विसे २८५२) ।

संगहिअ वि [संगृहीत] ? जिसका संवय  
क्रिया गया हो वह (हे २, १६८) । २  
स्वीकृत, स्वीकार किया हुआ (सण) । ३  
पकड़ा हुआ; 'संगहिओ हय्यो' (कुप्र ८१) ।  
देखो संगिहीअ ।

संगा सक [सं + गे] गान करना । कवक.  
संगिजमाण (उप ५६७ टी) ।

संगा व्री [दे] बला, बोड़े की लगाम (दे  
८, २) ।

संगाम सक [सङ्ग्रामय्] लड़ाई करना ।  
संगामेइ (भग. तंदु ११) । वक. संगामेमाण  
(शाया १, १६—पत्र २२३; निर १, १) ।

संगाम पुं [सङ्ग्राम] लड़ाई, युद्ध (आचा;  
पात्र; महा) । 'सूर पुं [शूर] एक राजा  
का नाम (श्रु २८) ।

संगामिय वि [साङ्ग्रामिक] संग्राम-संबंधी,  
लड़ाई से संबन्ध रखनेवाला (ठा ५, १—पत्र  
३०२; श्रौप) ।

संगामिया व्री [साङ्ग्रामिकी] श्रीकृष्ण  
वासुदेव की एक भेरी, जो लड़ाई की खबर  
देने के लिए बजाई जाती थी (विसे १४७६) ।

संगामुड्डामरी व्री [सङ्ग्रामोड्डामरी] विद्या-  
विशेष, जिसके प्रभाव से लड़ाई में आसानी  
से विजय मिलती है (सुपा १४४) ।

संगार पुं [दे] संकेत (ठा ४, ३—पत्र  
२४३; शाया १, ३; श्रौपना २२; सुख २,  
१५; सूयनि २६; धर्मसं १३८८ उप ३०६) ।

संगहि वि [संग्रहिन्] संग्रह-कर्ता (विसे  
१५३०) ।

संगि वि [सङ्गिन्] संग-युक्त (भग; संबोध  
७; कप्पु) ।

संगिजमाण देखो संगा = सं + गे ।

संगिण्ह देखो संगह = सं + गह् । संगिण्ह  
(विसे २२०३) । कर्म. संगिण्जते (विसे  
२२०३) । वक. संगिण्हमाण (भग ५,  
६—पत्र २३१) । संक. संगिण्हत्ताणं (पि  
५८३) ।

संगिण्हण न [संग्रहण] आयय-दान (ठा  
८—पत्र ४४१) । देखो संगहण ।

संगिह वि [सङ्गयन्] बट, संग-युक्त  
(पात्र) ।

संगिह देखो संगेह (राज) ।

संगिही देखो संगेही (राज) ।

संगिहीय वि [संगृहीत] ? आश्रित (ठा  
८—पत्र ४४१) । २ देखो संगहिअ =  
संगृहीत ।

संगीअ न [संगित] ? गाना, गान-तान  
(कुमा) । २ वि. जिसका गान किया गया  
हो वह; 'तेण संगीओ तुह् चव गुणगामो'  
(सुपा २०) ।

संगुग सक [सं + गुगय्] गुणकार  
करना । संगुणए (सुज्ज १०, ६ टी) ।

संगुण वि [संगुण] गुणित, जिसका गुणकार  
किया गया हो वह (सुज्ज १०, ६ टी) ।

संगुणित वि [संगुणित] ऊपर देखो (श्रौप  
२१; देवेन्द्र ११६; कम्म ५, ३७) ।

संगुत्त वि [संगुत्त] ? छिपाया हुआ,  
प्रच्छन्न रखा हुआ (उप ३३६ टी) । २  
गुप्ति-युक्त, अकृत्य प्रवृत्ति से रहित (पत्र  
१२३) ।

संगेह पुं [दे] समूह, समुदाय (दे ८, ४;  
वव १) ।

संगेही व्री [दे] ? परस्पर अवलम्बन;  
'हय्यसंगेल्लोए' (शाया १, ३—पत्र ६३) ।  
२ समूह, समुदाय (भग ६, ३३—पत्र  
४७४; श्रौप) ।

संगोटण वि [दे] ब्रणित, ब्रण-युक्त (दे  
८, १७) ।

संगोप्फ पुं [संगोफ] वन्ध-विशेष, मकट-  
संगोफ } वन्ध रूप गुम्फन (उत्त २३, ३५) ।

संगोह न [दे] संघात, समूह (पड्) ।

संगोही व्री [दे] समूह, संघात (दे ८, ४) ।

संगोव सक [सं + गोपय्] ? छिपाना,  
गुप्त रखना । २ रक्षण करना । संगोवइ  
(प्राक ६६) । वक. संगोवमाण, संगोवमाण  
(शाया १, ३—पत्र ६१; विपा १, २—  
पत्र ३१) ।

संगोवय वि [संगोपक] रक्षण-कर्ता (शाया  
१, १८—पत्र २४०) ।

संगोवाव देखो संगोव । संगोवावसु (स  
८६) ।

संगोविअ वि [संगोपित] ? छिपाया हुआ  
(स ८६) । २ संरक्षित (महा) ।

संगोवित्तु वि [संगोपयित्तु] संरक्षण-कर्ता  
संगोवेत्तु } (ठा ७—पत्र ३८५) ।

संघ सक [कथ्] कहना । संघइ (हे ४;  
२), संघमु (कुमा) ।

संघ पुं [संघ] ? माधु, साब्बी, श्रावक और  
श्राविकाओं का समुदाय (ठा ४, ४—पत्र  
२८१; ण्दि; महानि ४; सिग्ग १; ३; ५) ।

२ समान धर्मवालों का समूह (धर्मसं  
६८८) । ३ समूह, समुदाय (सुपा १८०) ।  
४ प्राणि-समूह (हे १, १८७) । 'दास पुं  
[दास] एक जैन मुनि और ग्रंथ-कर्ता (तो  
३; राज) । 'पालिय, 'वालिय पुं [पालित]  
एक प्राचीन जैन मुनि, जो आर्यवृद्ध मुनि के  
शिष्य थे (कम्म; राज) ।

संघअ वि [संहत] निविड, सान्द्र (ने १०,  
२६) ।

संघस पुं [संघस] ? विसाव, रगड़ । २  
आघात, वक्का (शाया १, १—पत्र ६५;  
श्रा २८) ।

संघट्ट सक [सं + घट्ट] ? स्पर्श करना,  
झूना । २ अक. आघात लगाना । संघट्टइ  
(भवि), संघट्टेइ (शाया १, ५—पत्र ११२;  
भग ५, ६—पत्र २२६), संघट्टए (दस ८,  
७) । वक. संघट्टंत (पिड ५७५) । संक.  
संघट्टिऊण (पव २) ।

संघट्ट पुं [संघट्ट] ? आघात, धक्का, संघर्ष  
(उव; कुप्र १६; धर्मवि ५७; सुपा १४) ।  
२ अर्धे जंवा तक का पानी (श्रौपना ३४) ।  
३ दूसरा नरक का छडवां नरकेन्द्रक—स्थान  
विशेष (देवेन्द्र ६) । ४ भीड़; जमावड़ा  
(भवि) । ५ स्पर्श (राय) ।

संघट्ट वि [संघट्टित] संलग्न (भवि) ।

संघट्टण न [संघट्टण] ? संमर्दन, संघर्ष  
(शाया १, १—पत्र ७१; पिड ५८६) । २  
स्पर्श करना (राज) ।

संघट्टणा व्री [संघट्टणा] संचलन, संचार  
'गन्ने संघट्टणा उ उट्ठंतुवेसमाणीए' (पिड  
५८६) ।

संघट्टा व्री [संघट्टा] वल्ली-विशेष (परण  
१—पत्र ३३) ।

संघट्टिय वि [संघट्टित] १ स्त्रुट, बुद्ध्या  
हुआ (शाया १, ५—पत्र ११२; पडि) ।  
२ संघापित, संघदित (भग १६, ३—पत्र  
७६६; ७६७) ।

संघड अक [सं + घट्] १ प्रयत्न करना ।  
२ संघट्ट होना, युक्त होना । कृ. संघ. डयठव  
(ठा ८—पत्र ४४१) । प्रयो. संघडावेइ  
(महा) ।

संघड वि [संघट] निरन्तरः 'संघडदत्तिलो'  
(आचा १: ४, ४, ४) ।

संघडण देखो संघयण (चंड—पृ ४८: भवि) ।  
संघडणा व्री [संघटना] रचना, निर्माण  
(समु १५८) ।

संघडिअ वि [संघटित] १ संघट्ट, युक्त  
(से ४, २४) । २ गठित, जटित (प्रासू. २) ।

संघदि (शौ) व्री [संहति] समूह (पि  
२६७) ।

संघयण न [दे. संहनन] १ शरीर, काय  
(दे ८, १४; पात्र) । २ अस्वि-रचना, शरीर,  
के हाडों की रचना, शरीर का बांध (भग;  
सम १४६; १५५; उव; औप; उवा; कम्म  
१, ३८; पड्) । ३ कर्म-विशेष, अस्वि-  
रचना का कारण-भूत कर्म (सम ६७; कम्म  
१, २४) ।

संघयणि वि [दे. संहननिन्] संहनन-  
वाला (सम १५५; अणु ८ टी) ।

संघरिस देखो संघंस (उप २६४ टी) ।

संघरिसिद (शौ) वि [संघरिपित] संघर्ष-युक्त;  
घिसा हुआ (मा ३७) ।

संघस सक [सं + घृप्] संघर्ष करना ।  
संघसिज (आचा २, १, ७, १) ।

संघसिद देखो संघरिसिद (नाट—मालवि  
२६) ।

संघाइअ वि [संघातित] १ संघात रूप से  
निष्पन्न (से १३, ६१) । २ जोड़ा हुआ  
(आव) । ३ इकट्ठा किया हुआ (पडि) ।

संघाइम वि [संघातम] ऊपर देखो (औप;  
आचा ३, १२; १; पि ६०२; अणु १२;  
दसनि २, १७) ।

संघाइ देखो संघाय = संघात (औवभा १०२;  
राज) ।

संघाइ } पुं [दे. संघाट] १ युग्म,  
संघाइग } युगल (राय ६६; धर्मसं १०६५;  
उप. पृ ३६७; सुपा ६०२; ६२३; औघ  
४११; उप २७५) । २ प्रकार, भेद; 'संघाडो  
त्ति वा लय त्ति वा पगारो त्ति वा एगट्टा'  
(निचू) । ३ ज्ञातावर्म-कथा नामक जैन ग्रं-  
थ का दूसरा अध्येयन (सम ३६) ।

संघाइग देखो सिंघाइग (कप्प) ।

संघाइगा व्री [संघटना] १ संघनव । २  
रचना; 'अस्वरगुणमत्तिंघाय (? ड)णाए'  
(सूअनि २०) ।

संघाडी व्री [दे. संघाटी] १ युग्म, युगल  
(दे ८, ७; प्राकृ ३८; गा ४१६) । २  
उत्तरीय वस्त्र-विशेष (ठा ४, १—पत्र १८६;  
शाया १, १६—पत्र २०४; औघ ६७७;  
विसे २३२६; पत्र ६२; कस) ।

संघाणय पुं [शिङ्खानक] श्लेष्मा, नाक में  
से बहता द्रव पदार्थ (तंडु १३) ।

संघातिम देखो संघाइम (शाया १, ३—पत्र  
१७६; परह २, ५—पत्र १५०) ।

संघाय सक [सं + घातय] १ संहत करना,  
इकट्ठा करना, मिलाना । २ हिसा करना,  
मारना । संघायइ, संघाएइ (कम्म १, ३६;  
भग ५, ६—पत्र २२६) । कृ. संघायणिज्ज  
(उत्त २६, ५६) ।

संघाय पुं [संघात] १ संहति, संहत रूप से  
अवस्थान, निविडता (भग; दस ४, १) । २  
समूह, जत्था (पात्र; गउड; औप; महा) ।  
३ संहनन-विशेष, वज्रश्रुपभ-नाराच नामक  
शरीर-बन्ध; 'संघाएणं संठाएणं' (औप) ।  
४ श्रुतज्ञान का एक भेद (कम्म १, ७) ।  
५ संकोच, सकुचाना (आचा) । ६ न.  
नामकर्म-विशेष, जिस कर्म के उदय से शरीर-  
योग्य पुद्गल पूर्व-गृहीत पुद्गलों पर व्यवस्थित  
रूप से स्थापित होते हैं (कम्म १; ३१;  
३६) । 'समास पुं [समास] श्रुतज्ञान  
का एक भेद (कम्म १, ७) ।

संघायण न [संघातन] १ विनाश, हिंसा  
(स १७०) । २ देखो 'संघाय' का छठवाँ  
अर्थ (कम्म १, २४) ।

संघायणा व्री [संघातना] संहति । करण

न [करण] प्रदेशों को परस्पर संहत रूप  
से रखना (विसे ३३०८) ।

संघार पुं [संहार] १ बहु-जंतु-क्षय, प्रलय  
(तंडु ४५) । २ नाश (पउम ११८, ८०;  
उप १३६ टी) । ३ संक्षेप । ४ विसर्जन ।  
५ नरक-विशेष । ६ भैरव-विशेष (हे १,  
२६४; पड्) ।

संघार (अन) देखो संहार = सं + ह । संकृ.  
संघारि (विग) ।

संघारिय वि [संहारित] मारित, व्यापादित  
(भवि) ।

संघासय पुं [दे] स्वर्ग; वरावरो (दे ८,  
१३) ।

संघिअ देखो संघिअ = संहित (प्राप) ।

संघिल्ल वि [संघयन्] संघ-युक्त, समुदित  
(राज) ।

संघोडी व्री [दे] व्यक्तिकर, संघनव (दे ८,  
८) ।

संच (अप) देखो संचिण । संचइ (भवि) ।

संच (अप) पुं [संचय] परिचय (भवि) ।

संचइ } वि [संचयिन्] संचयवाला,  
संचइग } संग्रही, संग्रह करनेवाला, (दसनि  
१०, १०; पव ७३ टी) ।

संचइय वि [संचयित] संचय-युक्त (राज) ।

संचकार पुं [दे] अवकाश, जगह;

अविगरणिय कुलकलंकं इय

कुहियकरंकारणे कीस ।

वियरसि संचकारं तं

नारयतिरियदुवचाण ॥'

(उप ७२८ टी) ।

संचत्त वि [संच्यत्त] परित्यक्त (अज्भ  
१७८) ।

संचय पुं [संचय] १ संग्रह (परह १, ५—  
पत्र ६२; गउड; महा) । २ समूह (कप्प;  
गउड) । ३ संकलन, जोड़ (वव १) ।  
'मास पुं [मास] प्रायश्चित्त-संबन्धी मास-  
विशेष (राज) ।

संचर सक [सं + चर्] १ चलना, गति  
करना । २ सम्यग् गति करना, अच्छी तरह  
चलना । ३ धीरे धीरे चलना । संचरइ  
(गउड ४२६; भवि) । वकृ. संचरंत (से २,

२४; मुर ३, ७६; नाट—वैत १३०) । क.  
संचरणिज्ज, संचरिअञ्च (नाट—वेणी  
१४. से १४, २८) ।

संचरण न [संचरण] १ चलना, गति । २  
सम्पत् गति (गउड; पि १०२; कप्प) ।

संचरिअ वि [संचरित] चला हुआ, जिसने  
संचरण किया हो वह (उप पृ ३५८; हविम  
५६; भवि) ।

संचलण न [संचलन] संचार, गति (गउड) ।

संचालिअ वि [संचलित] चला हुआ (मुर  
३, १४०; महा) ।

संचल्ल सक [सं + चल] चलना, गति  
करना । सचल्लइ (भवि) ।

संचल्ल (अप) देखो संचलिय (भवि) ।

संचल्लिअ देखो संचलिअ (महा) ।

संचाड्य वि [संचाकित] जो समर्थ हुआ  
हो वह (भग ३, २ टी—पत्र १७८) ।

संचाय अक [सं + शक्] समर्थ होना ।  
संचाएइ (भग; उवा; कस), संचाएमो (सूत्र  
२, ७, १०; णाया १, १८—पत्र २४०) ।

संचाय पुं [संचायण] परिव्याग (पंचा १३,  
३४) ।

संचार सक [सं + चारय्] संचार कराना ।  
संचारइ (भवि) । संक. संचारि (अप)  
(पिग) ।

संचार पुं [संचार] संचरण; गति (गउड;  
महा; भवि) ।

संचारि वि [संचारिण] गति करनेवाला  
(कप्प) ।

संचारिअ वि [संचारित] जिसका संचार  
कराया गया हो वह (भवि) ।

संचारिम वि [संचारिम] संचार-योग्य, जो  
एक स्थान से उठा कर दूसरे स्थान में रखा  
जा सके वह (पिड ३००; मुपा ३५१) ।

संचारी वी [दे] हूत-कर्म करनेवाली वी  
(पाम; पड) ।

संचाल सक [सं + चालय्] चलाना ।  
संचालइ (भवि) । कवक. संचालिज्जंत,  
संचालिज्जमाण (से ६, ३६; णाया १,  
६—पत्र १५६) ।

संचालिअ वि [संचालित] चलाया हुआ  
(से ४, २७) ।

संचिअ वि [संचित] संगृहीत (शोध ३२६  
भवि; नाट—वेणी ३७, मुपा ३५२) ।

संचितथ न [संचिन्तन] चिन्तन, विचार  
(हि २२) ।

संचितथया वी [संचिन्तना] ऊपर देखो  
(उत्त ३२, ३) ।

संचिक्ख अक [सं + स्था] रहना, ठहरना,  
अच्छी तरह रहना, समाधि से रहना ।  
संचिक्खइ (आचा १, ६, २, २) । संचिक्खे  
(उत्त २, ३३; शोध ६६) ।

संचिज्जमाण देखो संचिग ।

संचिट्ठ देखो संचिक्ख । संचिट्ठइ (भग; उवा;  
महा) ।

संचिट्ठण न [संस्थान] अवस्थान (पि ४८३) ।

संचिण सक [सं + चि] १ संग्रह करना;  
इकट्टा करना । २ उपचय करना । संचिणोइ,  
संचिणइ, संचिणंति (श्रु १०७; पि ५०२) ।  
संक. संचिणित्ता (सूत्र २, २, ६५; भग) ।  
कवक. संचिज्जमाण (आचा २, १, ३, २) ।

संचिणिय वि [संचित] संगृहीत (स ४०३) ।

संचिन्न वि [संचोर्ण] आचरित (सण) ।

संचुण्ण सक [सं + चूर्णय्] चूर-चूर  
करना, खंड-खंड करना, टुकड़ा-टुकड़ा करना ।  
कवक. संचुण्णिज्जंत (पउम ५६, ४४) ।

संचुण्णिअ } वि [संचूर्णित] चूर-चूर  
संचुन्निअ } किया हुआ (महा; भवि;  
णाया १, १—पत्र ४७; मुर १२, २४१) ।

संचेयणा वी [संचेतना] अच्छी तरह सूच,  
मान; 'लदसंचेयणा' (सिदि ६५७) ।

संचोइय वि [संचोदित] प्रेरित (आ ४, ३  
टी—पत्र २३८) ।

संछइय } वि [संछन्न] ढका हुआ (उप  
संछण्ण } पृ १२३; मुर २, २४७; मुपा  
संछन्न } ५६२; महा; सण) ।

संछाइय वि [संछादित] ढका हुआ (मुपा  
५६२) ।

संछाय सक [सं + छायय्] ढकना । वक.  
संछायंत (पउम ५६, ४७) ।

संछुइ सक [सं + क्षिप्] एकत्रित कर

छोड़ना, इकट्टा करना; 'संछुइई एगगेहम्मि'  
(पिड ३११) ।

संछोभ पुं [संक्षेप] अच्छी तरह फेंकना,  
क्षेपण (पंच ५, १५६; १८०) ।

संछोभग वि [संक्षेपक] प्रक्षेपक (राज) ।

संछोभण न [संक्षेपण] परावर्तन (राज) ।

संजइ पुं वी [संयति] उत्तम साधु, मुनि;  
'संजइए दव्वलिगीणमंतरं मेवसरिवसरिच्छं'  
(संबोध ३६) ।

संजई वी [संयती] साध्वी (शोध १६;  
महा; द्र २७) ।

संजणग वि [संजनक] उत्पन्न करनेवाला  
(मुर ११, १६६) ।

संजणण न [संजनन] १ उत्पत्ति । २ वि.  
उत्पन्न करनेवाला (मुर ६, १४२; मुपा  
३८२) । वी. णी (रत्त २८) ।

संजणय देखो संजणग (चिइय ६१५, मुपा  
३८; सिमवा २६) ।

संजणिय वि [संजनित] उत्पादित (प्रासू  
१४६; सण) ।

संजत्त सक [दे] तैयार करना । संजत्तेह  
(स २२) ।

संजत्ता वी [संयात्रा] जहाज की मुसाफिरी  
(णाया १, ८—पत्र १३२) ।

संजत्ति वी [दे] तैयारी; 'आणत्ता निय-  
पुरिसा संजत्ति कुण्ह गमणत्थं' (मुर ७,  
१३०; स ६३५; ७३५; महा) । देखो  
संजुत्ति ।

संजत्तिअ वि [दे] तैयार किया हुआ (स  
४४३) ।

संजत्तिअ } वि [सांयात्रिक] जहाज से  
संजत्तिग } यात्रा करनेवाला, समुद्र-भाग का  
मुसाफिर (मुपा ६५५; ती ६; सिदि ४३१;  
पव २७६; हे १, ७०; महा; णाया १,  
८—पत्र १३५) ।

संजत्थ वि [दे] १ कुपित, क्रुद्ध । २ पुं.  
क्रोध (दे ८, १०) ।

संजइ देखो संजय = संयत (प्राप्र; प्राकृ १२;  
संवि ६) ।

संजम अक [सं + यम्] १ निवृत्त होना ।  
२ प्रयत्न करना । ३ व्रत-नियम करना । ४  
सक. बांधना । ५ कावू में करना । कर्म.

संजमिजति (गउड २८६) । वक्र. संजमेंत, संजमयंत, संजममाण. (गउड ८४०; दसनि १, १४०; उत १८, २६) । कवक. संज-मीअमाण (नाट—विक्र ११२) । संक. संजमित्ता (सूत्र १, १०; २) । हेक. संजमिडं (गउड ४८७) । क. संजमिअव्व, संजमितव्व (भगः णाया १, १—पत्र ६०) ।

संजम सक [दे] छिपाणा । संजमेसि (दे ८, १५ टी) ।

संजम पुं [संयम] १ चारित्र, व्रत, विरति, हिंसादि पाप-कर्मों से निवृत्ति (भगः ठा ७; औपः कुमाः महा) । २ शुभ अनुष्ठान (कुमा ७, २२) । ३ रक्षा, अहिंसा (णाया १, १—पत्र ६०) । ४ इन्द्रिय-निग्रह । ५ वचन । ६ नियन्त्रण, काबू (हे १, २४५) । १ संजम पुं [संयम] श्रावक-व्रत (औप) ।

संजमण न [संयमन] ऊपर देखो (वर्मवि १७; गा २६१; सुपा ५५३) ।

संजमिअ वि [दे] संगोपित, छिपाया हुआ (दे ८, १५) ।

संजमिअ वि [संयमित] बाँधा हुआ, बद्ध (गा ६४६; सुर ७, ५; कुप १८७) ।

संजय अक [सं + यत्] १ सम्यक् प्रयत्न करना । २ सक, अच्छी तरह प्रवृत्त करना । संजयए. संजए (पत्र ७२; उत २, ४) ।

संजय वि [संयत] साधु, मुनि, व्रती (भगः श्रोधभा १७; काल); 'ममावि मायावित्ताए संजयाए' (महा) । १ पंता वी [प्रान्ता] साधु को उपद्रव करनेवाली देवी आदि (श्रोधभा ३७ टी) । १ भद्रिगा वी [भद्रिका] साधु को अनुकूल रहनेवाली देवी आदि (श्रोधभा १७ टी) । १ संजय वि [संयत] किसी अंश में व्रती और किसी अंश में अव्रती, श्रावक (भग) ।

संजय पुं [संजय] भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेनेवाला एक राजा (ठा ८—पत्र ४३०) ।

संजयंत पुं [संजयन्त] एक जैन मुनि (पउम ५, २१) । १ पुर न [पुर] नगर-विशेष (इक) ।

संजर पुं [संज्वर] ज्वर, बुखार (अच्छु ६७) । संजल अक [सं + ज्वल्] १ जलना । २ आक्रोश करना । ३ क्रुद्ध होना । संजले (सूत्र १, ६, ३१; उत २, २४) ।

संजलग वि [संज्वलन] १ प्रतिक्षण क्रोध करनेवाला (सम ३७) । २ पुं. कपाय-विशेष (कम्म १, १७) ।

संजलिअ पुं [संज्वलित] तीसरी नरक भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ६) ।

संजलिअ (अप) वि [संज्वलित] आक्रोश-युक्त (भवि) ।

संजव देखो संजम = सं + यम् । संजवहु (अप) (भवि) ।

संजव देखो संजम = (दे) । संजवइ (प्राक ६६) ।

संजविअ देखो संजमिअ = (दे) (पाग्रः भवि) ।

संजविअ देखो संजमिअ = संयमित (भवि) ।

संजा देखो संगा (हे २, ८३) ।

संजाणय वि [संजायक] विज्ञ, विद्वान्, जानकार (राज) ।

संजात १ देखो संजाय = संजात (सुर २, संजाद ११४; ४, १६०; प्राग्रः पि २०४) ।

संजाय अक [सं + जन्] उत्पन्न होना । संजायइ (सण) ।

संजाय वि [संजात] उत्पन्न (भगः उवाः महा; सणः पि ३३३) ।

संजोवणी वी [संजोवनी] १ मरते हुए को जीवित करनेवाली औपवि (प्रासू ८३) । २ जीवित-दात्री नरक-भूमि (सूत्र १, ५, २, ६) ।

संजीवि वि [संजिविन्] जिलानेवाला, जीवित करनेवाला (कप्पु) ।

संजुअ वि [संयुत] सहित, संयुक्त (द्र २२; सिक्खा ४८; सुर ३, ११७; महा) । देखो संजुत ।

संजुअ न [संयुग] १ लड़ाई, युद्ध, संग्राम (पाग्र) । २ नगर-विशेष (राज) ।

संजुअ सक [सं + युज्] जोड़ना । कर्म. 'अविसिद्धे सन्भावे जलेण संजुअ (? ज)ती

जहा वत्थं' (वर्मसं १८०) । कवक. संजुजंत (सम्म ५३) ।

संजुन न [संयुत] छन्द-विशेष (पिग) । देखो संजुअ = संयुत ।

संजुता वी [संयुता] छन्द-विशेष (पिग) ।

संजुत वि [संयुक्त] संयोगवाला, जुड़ा हुआ (महा; सणः पि ४०४; पिग) ।

संजुत्ति वी [दे] तैयारी (सुर ४, १०२; १२, १०१; स १०३; कुप २००) । देखो संजत्ति ।

संजुद्ध वि [दे] स्पन्द-युक्त. थोड़ा हिलने-चलनेवाला, फरकनेवाला (दे ८, ६) ।

संजूह पुंन [संयूथ] १ उचित समूह (ठा १०—पत्र ४६५) । २ सामान्य, साधारणता । ३ संक्षेप, समास (सूत्र २, २, १) । ४ ग्रन्थ-रचना, पुस्तक-निर्माण (अणु १४६) । ५ दृष्टिवाद के अठ्ठासी सूत्रों में एक सूत्र का नाम (सम १२८) ।

संजोअ सक [सं + योजय्] संयुक्त करना, संबद्ध करना, मिश्रण करना । संजोएइ, संजोयइ (पिड ६३८; भगः उवा; भवि) । वक्र. संजोयंत (पिड ६३६) । संक. संजो-एऊग (पिड ६३६) । क. संजोएअव्व (भग) ।

संजोअ सक [सं + ह्सा] निरीक्षण करना, देखना । संक. संजोइऊण (श्रु ३२) ।

संजोअ पुं [संयोग] संबन्ध, मेल-मिलाप, मिश्रण (पड; महा) ।

संजोअण न [संयोजन] १ जोड़ना, मिलाना (ठा २, १—पत्र २६) । २ वि. जोड़नेवाला । ३ कपाय-विशेष, अनन्तानुवन्धि नामक क्रोधादि-चतुष्क (विसे १२२६; कम्म ५, ११ टी) । १ धिकरणिआ वी [धिकरणिकी] खड्ग आदि को उसकी मूठ आदि से जोड़ने की क्रिया (ठा २, १—पत्र ३६) ।

संजोअणा वी [संयोजना] १ मिलान, मिश्रण (पिड ६३६) । २ भिक्षा का एक दोष, स्वाद के लिए भिक्षा-प्राप्त चीजों को आपस में मिलाना (पिड १) ।

संजोइय वि [संयोजित] मिलाया हुआ, जोड़ा हुआ (भगः महा) ।



संज्ञोड्य वि [संज्ञ] दृष्ट, निरोक्षित (भवि)।  
संज्ञो ग देखो संज्ञोअ = संज्ञो ग (हे १,  
२४५)।

संज्ञो गि वि [संज्ञो गिन्] संज्ञो ग-युक्त, संज्ञो  
(संज्ञो ४६)।

संज्ञो गेत्तु वि [संज्ञो गेत्तु] जोड़नेवाला  
(ठा ८—पत्र ४२६)।

संज्ञोत्त (अप) देखो संज्ञोअ = स + योजय।  
संज्ञ. संज्ञोत्तवि (भवि)।

संज्ञं नीचे देखो (छाया १, १—पत्र ४८)।  
°च्छेयावरण वि [°च्छेयावरण] १ सन्ध्या-  
विभाग का आवरण। २ पुं. चन्द्र, चांद  
(अणु १२० टी)। °पभ पुंन [°प्रभ]  
शक्र के सोम-लोकपाल का विमान (भग ३,  
७—पत्र १७५)।

संज्ञा स्त्री [संज्ञ्या] १ सांझ, साम, सायंकाल  
(कुमा; गडड; महा)। २ दिन और रात्रि  
का संधि-काल। ३ दुगों का संधि-काल।  
४ नदी-विशेष। ५ ब्रह्मा की एक पत्नी (हे  
१, ३०)। ६ मध्याह्न काल; 'तिसंझ' (महा)।  
°गय न [°गत] १ जिस नक्षत्र में सूर्य  
अनन्तर काल में रहनेवाला हो वह नक्षत्र।  
२ सूर्य जिसमें हो उससे चौदहवां या पनरहवां  
नक्षत्र। ३ जिसके उदय होने पर सूर्य उदित  
हो वह नक्षत्र। ४ सूर्य के पीछे के या आगे  
के नक्षत्र के बाद का नक्षत्र (वव १)।  
°च्छेयावरण देखो संझ-च्छेयावरण (पत्र  
२६८)। °णुराग पुं [°नुराग] सांझ के  
बोदल का रंग (पणु २—पत्र १०६)।  
°वली स्त्री [°वली] एक विद्याधर-कन्या का  
नाम (महा)। °विगम पुं [°विगम] रात्रि,  
रात (निबू १६)। °विराग पुं [°विराग]  
सांझ का समय (जीव ३, ४)।

संज्ञाअ सक [सं + ध्ये] खाल करना,  
चिन्तन करना, ध्यान करना। संज्ञाअदि  
(शौ) (पि ४७६; ५५८)। वक्र. संज्ञायंत  
(मुपा ३:६)।

संज्ञाअ अक [सं + ध्याय] संज्ञा की तरह  
आचरण करना। संज्ञायइ (गडड ६३२)।

संज्ञेक पुं [संज्ञेक] अन्वय, संज्ञेक (चेशइ  
३६६)।

संज्ञ वि [संज्ञ] घूर्त, मायावी (कुमा; दे ६,  
१११)।

संज्ञ (द्वपै) देखो संज्ञ (हे ४, ३२५)।

संज्ञप देखो संज्ञप।

संज्ञव सक [सं + स्थापय] १ रखना,  
स्थापना करना। २ आश्वासन देना, उद्वेग-  
रहित करना, सान्त्वना करना। संज्ञवइ,  
संज्ञवेइ (भवि; महा)। वक्र. संज्ञवंत (गा  
३६)। कवक्र. संज्ञवित्तंत (सुर १२; ४१)।  
संज्ञ. संज्ञवेऊण (महा), संज्ञप (उव),  
संज्ञविअ (पिग)।

संज्ञवण देखो संज्ञावण (मुच्छ १५४)।

संज्ञविअ वि [संस्थापित] १ रखा हुआ  
(हे १, ६७; प्राप्र; कुमा)। २ आश्वासित।  
३ उद्वेग-रहित किया हुआ (महा)।

संज्ञा अक [सं + स्था] रहना, अवस्थान  
करना, स्थिति करना। संज्ञाइ (पि ३०६;  
४८३)।

संज्ञाण न [संस्थान] १ आकृति, आकार  
(भग; औप; पत्र २७६; गडड; महा; दं ३)।  
२ कर्म-विशेष, जिसके उदय से शरीर के शुभ  
या अशुभ आकार होता है वह कर्म (सम  
६७; कम्म १, २४; ४०)। ३ संनिवेश,  
रचना (प्रासू ८७)।

संज्ञाव देखो संज्ञव। संज्ञ. संज्ञाविअ (नाट-  
चेत ७५)।

संज्ञावण न [संस्थापन] रखना; 'तिरिच्छ-  
संज्ञावण' (पत्र ३८)। देखो संज्ञावण।

संज्ञावणा स्त्री [संस्थापना] आश्वासन,  
सान्त्वना (ते ११, १२१)। देखो संज्ञावणा।

संज्ञाविअ देखो संज्ञविअ (हे १, ६७; कुमा;  
प्राप्र)।

संज्ञिअ वि [संस्थित] १ रहा हुआ, सम्यक्  
स्थित (भग; उवा; महा; भवि)। २ न.  
आकार (राय)।

संज्ञि स्त्री [संस्थिति] १ व्यवस्था (सुज्ज  
१, १)। २ अवस्था, दशा, स्थिति (उप  
१३६ टी)।

संज्ञे पुं [संज्ञे, पण्ड] १ बुध, वैल, सांड;  
'मत्तसंज्ञेव भमेइ विजसेइ अ' (था १२;  
सुर १५, १४०)। २ पुंन. पत्र आदि का  
समूह; बुध आदि की निविडता (छाया १,

१—पत्र १६; भग; कप्प; औप; गा ८; सुर  
३, ३०; महा; प्रासू १४५); 'तियसतकसंडो'  
(गडड)। ३ पुं. नपुंसक (हे १, २६०)।

संज्ञास पुंन [संज्ञा] १ मन्त्र-विशेष, संज्ञसी,  
विमटा (सुअ १, ४, २, ११; विपा १,  
६—पत्र ६८; स ६६६)। २ ऊरु-संधि,  
जांघ और ऊरु के बीच का भाग (औघ  
२०६; औघभा १५५)। °तांड पुं [°तुण्ड]  
पक्षि-विशेष; संज्ञसी की तरह मुखवाला पांखी  
(पणहं १, १—पत्र १४)।

संज्ञिअक } न [दे] बालकों का क्रीड़ा-स्थान  
संज्ञिअक } (राज; वस ५, १, १२)।

संज्ञि पुं [संज्ञिअक] १ देश-विशेष (उप  
१०३१ टी; सत ६७ टी)। २ एक जैन  
मुनि का नाम (कप्प; रांदि ४६)। ३ एक  
ब्राह्मण का नाम (महा)। देखो संज्ञिअ।

संज्ञो स्त्री [दे] बल्गा, लगाम (दे ८, २)।

संज्ञेव पुं [पाण्डेय] पंड-पुत्र, पंड, नपुंसक;  
'कुक्कुडसंज्ञेयगामपउरा' (औप; राया; १,  
१ टी—पत्र १)।

संज्ञे न [संज्ञेय] १ गोत्र-विशेष। २  
पुंस्त्री, उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र  
३६०)। देखो संज्ञेय।

संज्ञेव पुं [दे] पानी में पेर रखने के लिए  
रखा जाता पाषाण आदि (औघ ३१)।

संज्ञेवय (अप) देखो संज्ञेय; 'गामई कुक्कुड-  
संज्ञेयाई' (भवि)।

संज्ञोलिअ वि [दे] अनुगत, अनुयात (दे  
८, १७)।

संज्ञे पुं [पण्ड] नपुंसक (प्राप्र; हे १, ३०;  
संज्ञो १६)।

संज्ञो स्त्री [दे] सांडनी, ऊंडनी (मुपा ५८०)।

संज्ञोड्य वि [संज्ञोड्य] उपस्थापित (मुपा  
३२३)।

संज्ञ वि [संज्ञ] जानकार, ज्ञाता (आचा  
१, ५, ६, १०)।

संज्ञकवर देखो संज्ञकवर (राज)।

संज्ञज न [सांज्ञाय] मन्त्र आदि से संस्कारा  
जाता घी बगैरह (प्राक १६)।

संज्ञम् अक [सं + नह] १ कवच धारण  
करना, बखतर पहनना। २ तैयार होना।  
संज्ञम्इ (पि ३३१)।

संगडिअ वि [संनटिल] व्याकुल किया हुआ, विडम्बित (वज्जा ७०)।

संगद्व वि [संनद्व] संनाह-युक्त, कवचित (विपा १, २—पत्र २३; गउड)।

संगय देखो संनय (राज)।

संगयणा छी [संज्ञापना] संज्ञप्ति, विज्ञापन (उवा)।

संगा स्त्री [संज्ञा] १ आहार आदि का अभिलाष (सम ६; भग; पण १, ३—पत्र ५५; प्रासू १७६)। २ मति, बुद्धि (भग)। ३ संकेत, इशारा (से ११, १३४ टी)। ४ आहवा, नाम। ५ सूर्य की पत्नी। ६ नायत्री (हे २, ४२)। ७ विष्ठा, पुरीष (उप १४२ टी)। ८ सम्यग् दर्शन (भग)। ९ सम्यग् ज्ञान (राय १३३)। १० इअ वि [संज्ञ] टूट्टी फिरा हुआ, फरागत गया हुआ (दस १, १ टी)। ११ भूमि छी [भूमि] पुरीषोत्सर्जन की जगह (उप १४२ टी; दस १, १ टी)।

संगानिय वि [संनामित] अवनत किया हुआ (पंचा १६, ३६)।

संगाय वि [संज्ञात] १ ज्ञात, नात का आदमी (पंच १०, ३६)। २ स्वजन, सगा (उप ६५३)। देखो संनाय।

संगास पुं [संन्यास] संसार-त्याग, चतुर्थ आश्रम (नाट—चैत ६०)।

संगासि वि [संन्यासिन्] संसार-त्यागी, चतुर्थ-आश्रमी, यति, ब्रती (नाट—चैत ८८)।

संगाह सक्र [सं+नाहय्] लड़ाई के लिए तैयार करना, युद्ध-सज्ज करना। संग्राहेहि (श्रीप ४०)।

संगाह पुं [संनाह] १ युद्ध की तैयारी (से ११, १३३)। २ कवच, बखतर (नाट—वेणी ६२)। ३ पट्ट पुं [पट्ट] शरीर पर बांधने का वस्त्र-विशेष (बृह ३)।

संगाहिय वि [संनाहिक] युद्ध की तैयारी से सम्बन्ध रखनेवाला; 'संगाहियाए भेरीए सई सोचा' (साया १, १६—पत्र २१७)।

संगि वि [संज्ञिन्] १ संज्ञावाला, संज्ञा-युक्त। २ मनवाला प्राणी (सन २; भग; श्रीप)। ३ श्रावक, जैन गृहस्थ (श्रीप ८)।

४ सम्यग् दर्शनवाला, सम्यक्त्वो, जैन (भग)। ५ न. गोत्र-विशेष, जो वासिष्ठ गोत्र की शाखा है। ६ पुंस्त्री. उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०)।

संगिक्खत्त देखो संनिक्खत्त (राज)।

संगिगास देखो संगिवास (साया १, १—पत्र ३२)।

संगिगास देखो संनिगास = संनिकर्ष (राज)।

संगिचय देखो संनिचय (राज)।

संगिचिय देखो संनिचिय (आचा २, १, २, ४)।

संगिउम्ह देखो संनिउम्ह (गउड)।

संगिगाय देखो संनिनाय (राज)।

संगिवाइ देखो संगिहाइ (नाट—मालती २६)।

संगिवाण देखो संनिहाण (नाट—उत्तर ४४)।

संगिपडिअ वि [संनिपत्तित] गिरा हुआ (विपा १, ६—पत्र ६८)।

संगिभ देखो संनिभ (राज)।

संगिय वि [संज्ञित] जिसको इशारा किया गया हो वह (सुपा ८८)।

संगियास पुं [संनिकाश] समान, सदृश (पठम २०, १८८)। देखो संनियास।

संगिरुद्ध वि [संनिरुद्ध] बका हुआ, नियन्त्रित (आचा २, १, ४, ४)।

संगिरोह पुं [संनिरोध] अटकाव, रूकावट (से ५, ६४)।

संगियय अक्र [संनि+पत्] पड़ना, गिरना। वक्र. संगिययमाण (आचा २, १, ३, १०)।

संगिवाय पुं [संनिपात] सम्बन्ध (पंचा ७, १८)।

संगिविट्टु देखो संनिविट्टु (साया १, १ टी—पत्र २)।

संगिवेस देखो संनिवेस (आचा १, ८, ६, ३; भग; गउड; नाट—मालती ५६)।

संगिसिज्जा } देखो संनिसिज्जा (राज)।  
संगिसेज्जा }

संगिह देखो संनिह (गा २५८; नाट—मुञ्छ ६१)।

संगिहाइ वि [संनिधायिन्] समीप-स्थायी (माल ५२)।

संगिहाण देखो संनिहाण (राज)।

संगिहि देखो संनिहि (आचा २, १, २, ४)।

संगिहिअ वि [संनिहित] सहायता के लिए समीप-स्थित, निकट-वर्ती (महा)। देखो संनिहिअ।

संगेउम्ह देखो संनेउम्ह (गउड)।

संन देखो स = सत् (उवा; कप्प; महा)।

संत वि [शान्त] १ शम-युक्त, क्रोध-रहित (कप्प; आचा १, ८, ५, ४)। २ पुं. रस-विशेष; 'विणयंता चैव गुणा संतंतरसा किया उ भावंता' (सिरि ८८२)।

संत वि [शान्त] बका हुआ (साया १, ४; उवा १०१; ११२; विपा १, १; कप्प; दे ८, ३६)।

संतइ छी [संतति] १ संतान, अपत्य, लड़कावाला; 'दुडुसीला खु इतिया विणसैइ संतइ' (स ५०५; सुपा १०४)। २ अविच्छिन्न धारा, प्रवाह (उत्त ३६, ६; उप पृ १८१)।

संतच्छण न [संतक्षण] छिलना (सूअ १, ५, १; १४)।

संतच्छिअ वि [संतक्षित] छिला हुआ (पण १, १—पत्र १८)।

संतट्टु वि [संत्रस्त] उरा हुआ, भय-भीत (सुर ६, २०५)।

संतात देखो संतइ (स ६८४)।

संतत्त वि [संतत] १ निरन्तर, अविच्छिन्न। २ विस्तीर्ण।

अच्छिनिमीलियामितं नत्थि सुहं

दुक्खमेव संतत्तं।

नए नेरइयाणं अहोनिंसि

पच्चमाणाणं।

(सुर १४, ४६)।

संतत्त वि [संतप्त] संताप-युक्त (सुर १४, ५६; गा १३६; सुपा १६; महा)।

संतत्थ देखो संतट्टु (उव; आ १८)।

संतप्य अक्र [सं+तप्] १ तपना, गरम होना। २ पीड़ित होना। संतप्यइ (हे ४, १४०; स २०)। भवि. संतप्पिस्सइ (स

६८१) । कृ. संतपियञ्च (स ६८१) ।

वक्र. संनप्यमाण (सुज ६) ।

संतपिअ वि [संतप] १ संताप-युक्त (कुमा ६, १४) । २ न. संताप (स २०) ।

संतमस न [संतमस] १ ग्रन्थकार, ग्रंथेरा (पात्र; सुपा २०५) । २ ग्रन्थ-कूप, ग्रंथेरा कुँआ (सुर १०, १५८) ।

संतय देखो संतत्त = संतत (पात्र; भग) ।

संतर सक [सं + तृ] तैरना, तैर कर पार करना । हेक. संतरिचए (कस) ।

संतरण न [संतरण] तैरना, तैर कर पार करना (शोध ३८; चेइय ७४३; कुप्र २२०) ।

संतस अक [सं + त्रस] १ भय-भीत होना । २ उद्विग्न होना । संतसे (उत्त २, ११) ।

संता वी [शान्ता] सातवें जिन-भगवान् की शासन-देवता (संति ६) ।

संताण पुं [संतान] १ वंश (कप्य) । २ अविच्छिन्न वारा, प्रवाह (विसे २३६७; २३६८; गठड; सुपा १६८) । ३ तंतु-जाल, मकड़ी आदि का जाल; 'मक्खडासंताणए' (आचा; पडि; कस) ।

संताण न [संत्राण] परित्राण, संरक्षण (वृह १) ।

संताणि वि [संतानिन्] १ अविच्छिन्न वारा में उत्पन्न, प्रवाह-वर्ती; 'संताणियो न भिएणो जइ संताणो न नाम संताणो' (विसे २३६८; धर्मसं २३५) । २ वंश में उत्पन्न, परंपरा में उत्पन्न; 'देव इह अत्थि पत्तो उज्जाणे पासनाहसंताणी । केसी नाम गणहरो' (धर्मवि ३) ।

संतार वि [संतार] १ तारनेवाला, पार उतारनेवाला (पउम २, ४४) । २ पुं. संतरण, तैरना (पिग) ।

संतारिअ वि [संतारित] पार उतारा हुआ (पिग) ।

संतारिम वि [संतारिम] तैरने योग्य (आचा २, ३, १, १३) ।

संताय सक [सं + तापय] १ गरम करना. तपाना । २ दैरान करना । संतावेंति

(सुज्ज ६) । वक्र. संतावित (सुपा २४८) ।

कवक्र. संताविज्जमाण (नाट—मृच्छ १३७) ।

संताव पुं [संताव] १ मन का खेद (परह १, ३—पत्र ५५; कुमा; महा) । २ ताप, गरमी (परह १, ३—पत्र ५५; महा) ।

संतावण न [संतापन] संताप, संतप्त करना (सुपा २३२) ।

संतावणी वी [संतापनी] नरक-कुम्भी (सूअ १, ५, २, ६) ।

संतावय वि [संतापक] संताप-जनक (भवि) ।

संतावि वि [संतापिन्] संतप्त होनेवाला, जलनेवाला (कप्य) ।

संताविय वि [संतापित] संतप्त किया हुआ (काल) ।

संतास सक [सं + त्रासय] भय-भीत करना, डराना । संतासइ (पिग) ।

संतास पुं [संत्रास] भय, डर (स ५४४) ।

संतासि वि [संत्रासिन्] वास-जनक (उप ७६८ टी) ।

संति वी [शान्ति] १ क्रोध आदि का जय, उपशम, प्रशम (आचा १, १, ७, १, चेइय ५६४) । २ मुक्ति, मोक्ष (आचा १, २, ४, ४; सूअ १, १३, १; ठा ८—पत्र ४२५) ।

३ अहिंसा (आचा १, ६, ५, ३) । ४ उपद्रव-निवारण (विपा १, ६—पत्र ६१; सुपा ३६४) । ५ विषयोंसे मन को रोकना ।

६ चैन, आराम । ७ स्थिरता (उप ७२८ टी; संति १) । ८ दाहोपशम, ठंडाई (सूअ १, ३, ४, २०) । ९ देवी-विशेष (पंचा १६, २४) । १० पुं. सोलहवें जिनदेव का नाम (सम ४३; कप्य; पडि) ।

उद्अ न [उद्क] शान्ति के लिए मस्तक में दिया जाता मन्त्रित पानो (पि १६२) ।

कम्म न [कर्मन्] उपद्रव-निवारण के लिए किया जाता होम आदि कर्म (परह १, २—पत्र ३०; सुपा २६२) ।

कम्मंत न [कर्मान्त] जहाँ शान्ति-कर्म किया जाता हो वह स्थान (आचा २, २, २, ६) ।

गिह न [गृह] शान्ति-कर्म करने का स्थान (कप्य) ।

जल न [जल] देखो उद्अ (धर्म २) ।

जिण पुं [जिन] सोलहवें जिन-देव (संति १) ।

मई वी [मती] एक श्राविका का नाम

(सुपा ६२२) । ५ वि [०द] शान्ति-प्रदाता

(उप ७२८ टी) । ०सूरि पुं [०सूरि] एक जैनाचार्य और ग्रन्थकार (जी ५०) ।

०सेणिय पुं [०श्रेणिक] एक प्राचीन जैन मुनि (कप्य) ।

०हर न [०गृह] भगवान् शान्तिनाथजी का मन्दिर (पउम ६७, ५) ।

०होम पुं [०होम] शान्ति के लिए किया जाता हवन (विपा १, ५—पत्र ६१) ।

संतिअ } वि [द. सत्क] संबन्धी, संबन्ध

संतिग } रखनेवाला; 'अम्मा-पिउसंतिए, वद्धमाणे' (कप्य); 'नो कप्यइ निग्गयाण वा निग्गयाण वा सागारियसंतियं सज्जासंधारयं

आयाए अहिगरणं कट्ठं संपव्वइत्तए' (कस; उव; महा; सं २०६; सुपा २७८; ३२२; परह १, ३—पत्र ४२) ।

संतिज्जाघर देखो संति-गिह (महा ६८, ८) ।

संतिण वि [संतीर्ण] पार-प्राप्त, पार उतरा हुआ; 'संतिणं सव्वभया' (अजि १२) ।

संतुट्ठ वि [संतुष्ट] संतोष-प्राप्त (स्वप्न २०; महा) ।

संतुयट्ठ वि [संत्यगृत्त] जिसने पार्श्व घुमाया हो वह, जिसने करवट बदली हो वह, लेटा हुआ (आया १, १३—पत्र १७६) ।

संतुलणा वी [संतुलना] तुलना, तुल्यता, सरोज्वाई (सार्ध २०) ।

संतुस्स अक [सं + तुप्] १ प्रसन्न होना । २ वृत्त होना । संतुस्सइ (सिदि ४०२) ।

संतेज्जाघर देखो संतिज्जाघर (महा ६८, १४) ।

संतो अ [अन्तर] मध्य, बीच; 'अंतो संतो च मध्यायं' (प्राक ७६) ।

संतोस सक [सं + तोपय] १ प्रसन्न करना, खुशी करना । २ वृत्त करना । कर्म. संतोसीअदि (शौ) (नाट—रत्ना ४०) ।

संतोस पुं [संतोप] वृत्ति, लोभ का अभाव; 'हरइ अगुवि परगुणो गव्यम्मि विणियगुणे न संतोसो' (गठड; कुमा; परह १, ५—पत्र ६३; प्रासू १७७; सुपा ४३६) ।

संतोसि वी [संतोपि] सन्तोप, वृत्ति (उवा) ।

संतोसि वि [संतोपिन्] १ सन्तोप-युक्त-लोभ-रहित, निर्लोभी, वृत्त (सूअ १, १२,

१५; सुपा ४३६) । २ आनन्दितः खुशी (कप्प) ।

संतोसिअ पुं [संतोसिअ] संतोप, वृत्ति (उवा १६) ।

संतोसिअ वि [संतोसिअ] संतुष्ट-क्रिया हुआ (महा; सण) ।

संथ वि [संथ] संथित (विसे ११०१) ।

संथड } वि [संथड] १ आच्छादित,

संथडिय } परस्पर के संश्लेष से आच्छादित

(भग; ठा ४, ४) । २ घन, निविड़ (आचा २, १, ३, १०) । ३ व्याप्त (उत्त २१, २२;

श्रोष ७४७) । ४ समय । ५ वृत्त, जिसने

पर्याप्त भोजन किया हो वह (कस; आचा २, ४, २, ३; दस ७, ३३) । ६ एकत्रित

(आचा २, १, ६, १) ।

संथण अक [सं + स्तन्] आरब्ध करना ।

संथणतो (सूत्र १, २, ३, ७) ।

संथर सक [सं + स्तु] १ विद्यौना करना,

विद्याना । २ निस्तार पाना, पार जाना ।

३ निर्वाह करना । ४ अक. समय होना ।

५ वृत्त होना । ६ होना, विद्यमान होना ।

संथरइ (भग २, १—पत्र १२७; उवा; कस); 'ए समुच्छे णो संथरे तरुं' (सूत्र १, २, २, १३; आचा), संथरिज्ज, संथरे, संथरेज्जा

(कप्प; दस ५, २, २; आचा) । वक्क. संथरं, संथरंत, संथरमाण (उवर १४२;

श्रोष १८२; १८१; आचा २, ३, १, ८) ।

संथरिज्जा (भग; आचा) ।

संथर पुं [संस्तर] निर्वाह (पिड ३७५;

४००) ।

संथर देखो संथार (सुर २, २४७) ।

संथरण न [संस्तरण] १ निर्वाह (इह १) ।

२ विद्यौना करना (राज) ।

संथव सक [सं + स्तु] १ स्तुति करना,

श्लाघा करना । २ परिचय करना । संथवेज्जा

(सूत्र १, १०, ११) । क. संथवियच्चव

(सुपा २) ।

संथव पुं [संस्तव] १ स्तुति, श्लाघा, 'संथवो

युई (निच्च २; वव ३; पिड ४८४) । २

परिचय, संतर्पण (उवा; पिड ३१०; ४८४;

४८५, श्रावक ८८) । ३ वि. स्तुति-कर्ता

(गाया १, १३ टी—पत्र २२०; राज) ।

संथवण न [संस्तवण] ऊपर देखो (संथव

५६; उप ७६८ टी) ।

संथवय वि [संस्तावक] स्तुति-कर्ता (गाया

१, १६—पत्र २१३) ।

संथविअ देखो संथविअ (पउम ८३, १०) ।

संथार पुं [संस्तार] १ दर्भ—कुश आदि

संथारग } की शय्या, विद्यौना (गाया १, १—

संथारय } पत्र ३०, उवा; उव; भग) । २

अपवरक, कमरा (आचा २, २, ३, १) ।

३ उपाश्रय, साधु का वास-स्थान (वव ४) ।

४ संस्तार-कर्ता (पव ७१) ।

संथाव देखो संठाव । वक्क. संथावंत (पउम

१०३, २४) ।

संथावण न [संस्थापण] सान्त्वना,

समाधासन (पउम ११, २०; ४६, ८; ६५,

४७) । देखो संठावण ।

संथावणा वी [संस्थापणा] संस्थापन, रखना

(सा २४) । देखो संठावणा ।

संथिद (शौ) देखो संठिअ (नाट—मृच्छ

३०१) ।

संथुअ वि [संस्तुत] १ संबद्ध, संगत (सूत्र

१, १२, २) । २ परिचित (आचा १, ३,

१, १) । ३ जिसकी स्तुति की गई हो वह,

श्लाघित (उत्त १, ४६; भवि) ।

संथुइ वी [संस्तुति] स्तुति, श्लाघा,

प्रशंसा (चेइय ४६६; सुपा ६५०) ।

संथुण सक [सं + स्तु] स्तुति करना, श्लाघा

करना । संथुणइ (उव; यति ६) । वक्क.

संथुणमाण (पउम ८३, १०) । कवक्क.

संथुणिज्जांत, संथुण्वंत (सुपा १६०; आक

७) । संक्क. संथुणिज्जा (पि ४६४) ।

संथुल वि [संस्थुल] रमणीय, रम्य, सुन्दर

(चाह १६) ।

संथुण्वंत देखो संथुण ।

संद अक [स्यन्द] १ करना, टपकना ।

संदति (सूत्र १, १२, ७) ।

संद पुं [स्यन्द] १ करना, प्रकव (से ७,

५६) । २ रय; 'रवि-संडु(? दु)व्व भर्मतो

(घर्मवि १४४) ।

संद वि [सान्द्र] घन, निविड़ (अच्छु ३७;

विक्र २३) ।

संदंस पुं [संदंश] दक्षिण हस्त; 'द्विदाविश्रो

निवेशं कोववसा तहवि तस्स संदंसो'

(कुप्र २३२) ।

संदंसण न [संदंशण] दर्शन, देखना,

साक्षात्कार (उप ३५७ टी) ।

संदंष्ट वि [संदंष्ट] जो काटा गया हो वह,

जिसकी दंश लगा हो वह (हे २, ३४; कुमा

३, ८; पड) ।

संदंष्ट वि [संदंष्ट] १ संलग्न, संयुक्त,

संदंष्टय } संबद्ध (दे ८, १८; गउड; २३६) ।

२ न. संवट्ट, संवर्ष (दे ८, १८) ।

संदंष्ट वि [संदंष्ट] अति जला हुआ (सुर

६, २०५; सुपा ५६६) ।

संदंष्ट पुं [स्यन्दन] १ रय (पात्र; महा) ।

२ भारतवर्ष में अतीत उत्सर्पिणी-काल में

उत्पन्न तेइस्सवां जिनदेव (पव ७) । ३ न.

क्षरण, प्रकव । ४ वहन, वहना । ५ जल,

पानी; 'जल्य एं नई निच्चोयगा निच्चसंदणा'

(कप्प) ।

संदंष्ट पुं [संदंष्ट] रचना, ग्रंथन (उवर

२०३; सण) ।

संदंष्टमाणिआ } वी [स्यन्दमानिका, °नी]

संदंष्टमाणी } एक प्रकार का वाहन, एक

तरह की पालकी (श्रोप; गाया १, ५—

पत्र १०१; १, १ टी—पत्र ४३; श्रोप) ।

संदंष्टाण सक [कु] अवलम्बन करना, सहारा

लेना । संदाणइ (हे ४, ६७) । वक्क.

संदंष्टाणंत (कुमा) । कवक्क. संदाणिज्जांत

(नाट—मालती ११६) ।

संदंष्टाणिअ वि [संदंष्टानित] वद्ध, नियन्त्रित

(पात्र; से १, ६०; १३, ७१; सुपा ३;

कुप्र ६६; नाट—मालती १६६) ।

संदंष्टामिय वि [संदंष्टामित] ऊपर देखो (स

३१६; सम्मत १६०) ।

संदंष्टाव देखो संताव = संताप (गा ८१७;

६६४; पि २७५; स्वप्न २७; अभि ६१;

माल १७६) ।

संदंष्टाव पुं [संदंष्टाव] समूह, समुदाय (विसे

२८) ।

संदिह वि [संदिह] १ जिसका अथवा

जिसको संदेशा दिया गया हो वह, उपदिष्ट,

कथित (पात्र, उप ७२८ टी; श्रोषभा ३१;

नवि) । २ विसको प्राज्ञा दी गई हो वह: 'हरिणेगेनेसिणा सन्नववणसंदिहये' (कण) । ३ द्रव्य हुआ, छिन्ना निकाला हुआ (पायल प्रादि) (राय ६७) ।

संदिह वि [सं + दग्] सराय-बुध, संदिह-वाला (पाय) ।

संदिह न [सं + दत्] उन्तीस दिनों का लगातार उपवास (संशोध ५८) ।

संदिह वि [स्यन्दिह] धरित. टपका हुआ (सुर २, ७६) ।

संदिह वि [स्यन्दिह] करनेवाला (मण) ।

संदिह न चक [सं + दिह] ? संदेश देना, समाचार पहुँचाना । २ प्राज्ञा देना । ३ अनुज्ञा देना. सम्मति देना । ४ दान के लिए संकल्प करना । संदिसर (पट्ट; महा), संदिसह (पडि) । कबहु. संदिहस्तन (गिड २३६) । प्रयो., संहु. संदिहाविक्रम (पंचा ५, ३८) ।

संदिसण न [सं + दिसण] उपदेश, कथन; 'कुलनी-इन्द्रिभंगपन्मुहुरेगेनप्रीसतसंदिसण' (संशोध १५) ।

संदीण पुं [सं + दीण] ? द्रोण-विशेष, पत्र या माल प्रादि में पानी से सराबोर होता द्रोण । २ अल्पकाल तक रहनेवाला दीपक । ३ युवतान । ४ क्षोन्य, क्षीणणीय (प्राचा १, ६, ३, ३) ।

संदीवण वि [सं + दीवण] उत्तेजक, उद्दीपक; 'कामगिसंदीवण' (रंना) ।

संदीवण न [सं + दीवण] ? उत्तेजना. उद्दीपन (संशोध ४८; नाट—उत्तर ५३) । २ वि. उत्तेजन का कारण, उद्दीपन करनेवाला (उत्तर ८८) ।

संदीविय वि [सं + दीविय] उत्तेजित, उद्दीपित (नवि) ।

संदुक्ख अक [प्र + दीप्] जलना, मुलगना । संदुक्खइ (पट्ट) ।

संदुट्ट वि [सं + दुट्ट] यतिशय दुष्ट (संशोध ११) । संदुम अक [प्र + दीप्] जलना, मुलगना । संदुमइ (हे ४, १५२; कुमा) ।

संदुमिअ वि [प्र + दीप्] जला हुआ, मुलगा हुआ (पाय) ।

संदेव पुं [दि] ? सीना, गयादा । २ नदी-मेलक, नदी-संगम (दे ८, ७) ।

संदेस पुं [सं + देस] संस्था, उमापार (जा ३४२; ८२३; हे ४, ४३४; मुग २०६; ५१६) ।

संदेह पुं [सं + देह] संशय, शंका (स्वप्न ६६; गउड; महा) ।

संदेह पुं [सं + देह] समूह, जथा (पाय; सुर २, १६६; विदि ५६४) ।

संध नक [सं + धा] ? साधना, जोडना । २ अनुसंधान करना, सोच करना । ३ वादना, चाहना । ४ युद्ध करना, लड़ना । ५ करना 'नमं व संध रई सी' (हुम १०२), संघ, संघ (प्राचा: मुग १, १४, २१; १, ११, ३४; ३५) । नवि. संदिहानि, संदिहिसि (वि ५३०) । यहु. संधन (मे ५, २४) । कबहु. संधिजमाण (मग) । हेहु. संधिउं (हुम ३८१) ।

संधं देतो संधं (देहर २००) ।

संधण श्ले [संधान] ? वाधा, संधि, जोड़ (धर्मसं १०१७) । २ अनुसंधान (पंचा १२, ४३) । को. 'णा (प्राचानि १-५; नूपति १६७; शोध ७२७) ।

संधणया श्री [संधना] साधना, जोडना (धव ?) ।

संधय वि [संधक] साधन-कर्ता (धम ८, ४, ५) ।

संधया देतो संय = सं + धा । संधयाती (सुर २, ६, २) ।

संधा श्री [संधा] प्रतिज्ञा, नियम (आ १२; उप पृ ३३३; समस्त १७१) ।

संधाण न [संधान] ? दो हाडों का संबन्ध-त्वात् (सुर १२, ६) । २ संधि, मुलह (हम्मौर १५) । ३ नय, मुग, बाल (धर्मसं ५३) । ४ जोड़, संबन्ध, मित्रात् (प्राचा: कुमा; नवि) । ५ अघाट, नावू प्रादि का मसाला दिया जाय-विशेष (पव ४) ।

संधारण न [संधारण] साधना, धारवासन (व ४१६) ।

संधारिअ वि [दि] योग्य, लायक (दे ८, १) ।

संधारिअ वि [संधारिअ] स्वा हुआ, स्थापित (प्राचा १, १—पत्र ६६) ।

संधाय नक [सं + धा] दीपना । संघारइ (वत २०, ४६) ।

संधि पुत्री [संधि] ? धि, विर । २ संघात्, उतसंघात् पदार्थ-नियाम (मुग १, १, १, २०; २१, २२; २३; २४) । ३ ध्याकरण-प्रयोग दो पद्यों के संबन्ध में होने वाला यण-विशेष (पट्ट २, २—पत्र ११४) । ४ संघ, संघ के नियमों में धिया जाता है (पत्र ६०; महा: शाल ११०) । ५ दो हाडों का संबन्ध-त्वात् 'प्राचाया कब-संधीयो' (सुर ४, १६४; १२, १६४) भी (२२) । ६ मत, धर्मिण्यः 'पट्टया विधि-संधिणा हि पुरिया प्रथित' (न २८) । ७ धर्म, धर्म-संघति (प्राचा: मुग १, १, १, २०) । ८ सम्बन्ध शब्द की प्राप्ति । ९ धारि-संबन्धीय कर्म का ध्यानराज । १० धारण, धारण, प्रसंग । ११ संघन, संघन (प्राचा) । १२ दो पद्यों का संबन्ध-त्वात् (विता १, ३—पत्र ३६; महा) । १३ मत के लिए कतिपय नियमों पर नियम-न्यायन, मुलह (क्यू: कुमा ६, ४०) । १४ संघ या प्रकरण, धर्म्यात्, परिच्छेद (नवि) । 'सिंह न [सुट्ट] दो नतीं के बीच का प्रच्छेद स्थान (कण) ।

'च्छेदना, छेदन वि [च्छेदक] गैर लगा कर चारों करनेवाला (प्राचा १, १८—पत्र २३६; विता १, ३—पत्र ३६) । 'पाठ, पाठ वि [पाठ] दो चर्यों को गुलह का स्वर (तन्म: शोध; कुमा १, १—पत्र १६) ।

संधिअ वि [दि] दुर्गमि, दुर्लभवाला (दे ८, ८) ।

संधिअ वि [संहित] साधा हुआ, जोड़ा हुआ (मे १, ४४; गा ५३; स २६५; संहु २३; पत्र ७०) ।

संधिअ वि [संधित] प्रसारित (गउड) । संधिआ देतो संहिया (शोध ६२) ।

संधिउं देतो संय = सं + धा ।

संधित देतो संधिअ = संहित (मग) ।

संधिविग्गहिअ पुं [सान्धिविग्रहिअ] राजा को संधि और लड़ाई के कार्य में निकुल नया (कुमा) ।

संधीर सक [ सं + धीरय् ] आधासन देना, धीरज देना । वक्र. संधीरंत (सुपा ४७६) ।

संधीरविय वि [संधीरित] जिसको आधासन दिया गया हो वह; आधासित (सुर ४, १११) ।

संधुक्क ग्रक [ प्र + दीप्, सं + धुक्ष् ] ? जलना, मुलगना । २ सक. जलाना । ३ उत्तेजित करना । संधुक्कइ (हे ४, १५२; कुमा) । कर्म. संधुक्कइइ (वज्रा १३०) ।

संधुक्कण न [संधुक्षण] ? सुलगना, जलना । २ प्रज्वालन, मुलगाना (भवि) । ३ वि. सुलगानेवाला (स २४१) ।

संधुक्किअ वि [संधुक्षित] ? जलाया हुआ, सुलगाया हुआ (सुपा ५०१) । २ जला हुआ, प्रदीप्त, सुलगा हुआ (पात्र; महा; स २७) । ३ उत्तेजित; 'अविद्येयपवणसंधुक्कियो पज्जलियो मे मणम्मि कोवाणलो' (स २४१) ।

संधुच्छिद (शौ) ऊपर देखो (नाट—मृच्छ २३३) ।

संधुम देखो संटुम । संधुमइ (पड्) ।

संधे देखो संध = सं + धा । संवेइ, संवेति, संवेजा (आचा १, १, १, ५; पि ५००; सूत्र १, ४, १, ५) । वक्र. संधेत, संधेमाण (पउम ६८, ३१; पंचा १४, २७; आचा; पि ५००) ।

संन देखो संण (आचा १, ५, ६, ४) ।

संनक्खर न [संज्ञाक्षर] अकार आदि अक्षरों की आकृति (एदि १८७) ।

संनज्जुम देखो संणज्जुम । संनज्जुमइ (भवि) । संक. संनज्जुमऊण (महा) । हेक. संनज्जुमउं (स ३७६) ।

संनण न [संज्ञान] इशारा करना, संज्ञा करना (उप २६०) ।

संनत देखो संनय (पएह १, ४—पत्र ७८) ।

संनद्ध देखो संणद्ध (औप; विपा १, २ ठी—पत्र २३) ।

संनय वि [संनत] नमा हुआ, अवनत (औप; वजा १५०) ।

संनय सक [ सं + ज्ञापय् ] संभाषण से संतुष्ट करना । संनवेइ (राय १४०) ।

संनह देखो संणज्जुम । संनहइ (भवि), संनहह (धर्मवि २०) ।

संनहण न [संनहन] संनाह (पउम १०, ६४) ।

संनहिय देखो संणद्ध (सुपा २२) ।

संना देखो संणा (ठा १—पत्र १६; पएह १, ३—पत्र ५५; पात्र; सुर ३, ६७; पिड २४५; उप ७५१; दं ३) ।

संनाय वि [संज्ञात] पिछाना हुआ, पहिचाना हुआ; 'संनाया परियणेण' (महा) । देखो संणाय (पत्र १५३) ।

संनाह देखो संणाह = सं + नाह्य् । संनाहेइ (औप; तंदु ११) । संक. संनाहिच्चा (तंदु ११) ।

संनाह देखो संणाह = संनाह (महा) ।

संनाहिय वि [संनाहित] तय्यार किया हुआ, सजाया हुआ (औप) ।

संनाहिय देखो संणाहिय (आया १, १६—पत्र २१७) ।

संनि देखो संणि (सम २; ठा २, २—पत्र ५६; जी ४३; कम्म १, ६) ।

संनिकास देखो संनिगास (ठा ६—पत्र ४५६, कप्प) ।

संनिकिट्ट वि [संनिकिट्ट] आसन्न, समीप में स्थित (सुख ४, ८) ।

संनिकिखत्त वि [संनिकिषत्त] डाला हुआ, रखा हुआ (कप्प) ।

संनिगास वि [संनिकाश] ? समान, तुल्य (भंग २, १; आया १, १—पत्र २५; औप; स ३८१) । २ पुं. अपवाद (पंचु) । ३ पुं. समीप, पास (पउम ३६, २८) ।

संनिगास पुं [संनिकर्षे] संयोग; 'संजोग संनिगासो पडुच्च संबंध एगट्ठा' (एदि १२८ ठी) ।

संनिचय पुं [संनिचय] ? निचय, समूह (आचा) । २ संग्रह (आचा १, २, ५, १) ।

संनिचिय वि [संनित्त] निविड़ किया हुआ (पत्र १५८; जीवस ११६) ।

संनिजुंज सक [ संनि + युज् ] अच्छी तरह जोड़ना । कवक. संनिजुज्जंत (पिड ४५५) ।

संनिज्जुम न [सांनिध्य] सहायता करने के लिए समीप में आगमन, निकटता (स ३८२) ।

संनिनाय पुं [संनिनाद] प्रतिव्वनि, प्रतिशब्द (कप्प) ।

संनिभ देखो संनिह (आया १, १—पत्र ४८; उवा; औप १) ।

संनिमहिअ वि [संनिमहित] ? व्याप्त, पूर्ण; भरा हुआ । २ पूजित; 'चंपा नाम नयरी पंडुरवरभक्कासंनिमहिया' (औप; आया १, १ ठी—पत्र ३), 'अत्थि मग्हा जणवओ गामसतसंनिमहिओ' (वसु) ।

संनिय देखो संणिय (सिरि ८६०; भवि) ।

संनियट्ट वि [संनियट्ट] रका हुआ, विरत ।

चारि वि [चारिन्] प्रतिपिद्ध का वर्जन करनेवाला (कप्प) ।

संनियास देखो संनिगास (पउम ३३, ११६) ।

संनिलयण न [संनिलयण] आश्रय, आवार; 'लोभयथा संसारं अतिवयति सव्वदुक्खसंनिलयणं' (पएह १, ५—पत्र ६४) ।

संनियइय देखो संणिपडिअ (आया १, १—पत्र ६५) ।

संनिवाइ वि [संनिपातिन्] संयोगी, सम्बन्धी; 'सव्वक्खरसंनिवाइयो' (कप्प; औप; सम्मत्त १४४) ।

संनिवाइ वि [संनिवादिन्] संगत बोलनेवाला, व्याजवी कहनेवाला (भंग १, १—पत्र ११) ।

संनिवाइय वि [सांनिपातिक] संनिपात रोग से सम्बन्ध रखनेवाला (आया १, १—पत्र ५०; तंदु १६; औप ८७) । २ भाव-विशेष, अनेक भावों के संयोग से बना हुआ भाव (अणु ११३; कम्म ४, ६४; ६८) । ३ पुं. संनिपात, मेल, संयोग (अणु ११३) ।

संनिवाइय वि [संनिपातिक] देखो संनिवाइ; 'सव्वक्खरसंनिवाइयाए' (औप ५६) ।

संनिवाडिय वि [संनिपातित] विध्वस्त किया हुआ (आया १, १६—पत्र २२३) ।

संनिवाय पुं [संनिपात] संयोग, सम्बन्ध (कप्प; औप) ।

संनिविट्ट न [संनिविट्ट] ? मोहल्ला, रथ्या (औप) । २ वि. जिसने पड़ाव डाला हो वह, नगर के बाहर पड़ाव डालकर पड़ा हुआ (कस) । ३ संहत और स्थिर आसन से व्यवस्थित—बैठा हुआ (आया १, ३—पत्र ६१; राय २७) ।

संनिवेश पुं [संनिवेश] १ नगर के बाहर का प्रदेश, जहाँ आभीर वगैरह लोग रहते हैं। २ गाँव, नगर आदि स्थान (भग १, १—पत्र ३६)। ३ यात्री आदि का डेरा, मार्ग का वास-स्थान, पड़ाव (उत्त ३०, १७)। ४ ग्राम, गाँव (सिद्धि ३८)। ५ रचना (उप पृ १४२)।

संनिवेशणया स्त्री [संनिवेशणया] संस्थापन (उत्त २६, १)।

संनिवेशिह वि [संनिवेशिह] रचनावाला, (उप पृ १४२)।

संनिषन्न वि [संनिषण्ण] बैठा हुआ, सम्पत् स्थित (शाया १, १—पत्र १६; कुप्र १६६; श्रु १२; सण)।

संनिषिञ्जा स्त्री [संनिषिञ्जा] आसन-संनिषेञ्जा विशेष, पीठ आदि आसन (सम २१; उत्त १६, ३; ज्व)।

संनिह वि [संनिभ] समान, सदृश (प्रासू ६६; सण)।

संनिहाण न [संनिधान] १ ज्ञानावरणीय आदि कर्म (आचा)। २ कारक-विशेष, अवि-करण कारक, आचार (विसे २०६६; ठा ८—पत्र ४२७)। ३ सान्निध्य, निकटता (स ७१८; ७६१)। ४ सत्त्व न [शास्त्र] संयम; त्याग (आचा)। ५ सत्त्व न [शास्त्र] कर्म का स्वरूप बतानेवाला शास्त्र (आचा)।

संनिहि पुं स्त्री [संनिधि] १ उपभोग के लिए स्थापित वस्तु (आचा १, २, १, ४)। २ संस्थापन। ३ सुन्दर निधि (आचा १, २, ५, १)। ४ समीपता, निकटता (उप पृ १८६; स ६८०; कुप्र १३०)। ५ संज्ञय, संग्रह (उत्त ६, १५; दस ३, ३; ८, २४)।

संनिहिअ पुं [संनिहित] अणुपत्ति देवों के दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५)। देखो संणिहिअ (शाया १, १ टी—पत्र ४)।

संनिष्क देखो संनिष्कः 'उवगारि ति करेइ कुमरस्स सत्तेज्जं(?) ज्जं' (कुप्र २५; चैइय ७८३)।

संपअ (अप) देखो संपया (पिंग; पि ४१३; संपइ } हे ४, ३३५; कुमा)।

संपइ अ [संप्रति] १ इस समय, प्रधुना, अथ (पात्र; महा; जी ५०; दं ४६; कुमा)। २ पुं, एक प्रसिद्ध जैन राजा, सम्राट् अशोक का पौत्र (कुप्र २; धर्मवि ३७; पुष्क २६०)। ३ काल पुं [काल] वर्तमान काल (मुपा ४४६)। ४ कालीण वि [कालीण] वर्तमान-काल-सम्बन्धी (विसे २२२६)।

संपइण वि [संप्रिण] व्याप्त (राज)।

संपइत्त वि [संपयुत्त] संयुक्त, संबद्ध, जोड़ा हुआ (ठा ४, १—पत्र १८३; सूत्र २, ७, २, उवा; श्रौप; धर्मसं ६६५; राय १४६)।

संपअंग पुं [संपयोग] संयोग, संबन्ध (ठा ४, १—पत्र १८३; स ६१४; उा ७२८ टी; कुप्र ३७३; श्रौप)।

संपअर देखो संपगर। संपकरेइ (उत्त २१, १६)।

संपक पुं [संपक] सम्बन्ध (मुपा ५८; सम्मत १४१)।

संपकि वि [संपकि] संकवाला, संबन्धी (कप्प; काप्र १७)।

संपकखाल पुं [संपकखाल] तापस का एक भेद जो मिट्टी वगैरह बिस कर शरीर का प्रक्षालन करते हैं (श्रौप)।

संपकखालिय वि [संपकखालित] घोवा हुआ (धर्म-३)।

संपकखत्त वि [संपकखत्त] प्रक्षिप्त, फेंका हुआ, डाला हुआ (पंच ५, १५७)।

संपगर सक [संप + क] करना। संपगरेइ (उत्त २१, १६)।

संपगाह वि [संपगाह] १ अत्यन्त आनन्द (उत्त २०, ४५; सूत्र २, ६, २२)। २ व्याप्त (सूत्र १, ५, १, १७)। ३ स्थित, व्यवस्थित (सूत्र १, १२, १२)।

संपगिह वि [संपगृह] अति आसक्त (पणह १, ४—पत्र ८५)।

संपगहिअ वि [संपगृहीत] खूब प्रकर्ष से गृहीत, विशेष अभिमान-युक्त (दस ६, ४, २)।

संपज अक [सं + पट्] १ संपन्न होना, सिद्ध होना। २ मिलना। संपजइ (पट्; महा)। भवि. संपजिस्तइ (महा)।

संपजलिअ पुं [संपजलित] तीसरा नरक का नववाँ नरक, नरकावास-विशेष (देवेन्द्र ६)।

संपट्टिअ देखो संपट्टियअ = संप्रस्वित (उप १४२ टी; श्रौप; संवाय ५५; मुपा ७७; उपपृ १५८)।

संपड अक [सं + पट्] १ प्राप्त होना, मिलना; गुजरातो में 'सांपट्टु'। २ सिद्ध होना, निष्पन्न होना। संपडइ, संपडंति (वजा ११६; सपु १५०; वज्जा ५०)। वरु. संपडंत (सि १४, १; गुर १०, ६७)।

संपडिअ वि [सं + पट्] लब्ध; मिला हुआ, प्राप्त (दि ८, १०; स २५६)।

संपडिवूह सक [संप्रति + वृ + ह] प्रशंसा करना, तारीफ करना। संपडिवूहात् (मुप्र २, २, ५५)।

संपडिलेह सक [संप्रति + ले + वृ] प्रति-जागरण करना, प्रत्युपेक्षण करना, अच्यौ तरह निरीक्षण करना। संपडिलेह (उत्त २६, ४३)। क. संपडिलेहियव्व (दस १, १)।

संपडिवज्ज सक [संप्रति + पट्] स्वीकार करना। संपडिवज्जइ (भग)।

संपडिवत्ति स्त्री [संप्रतिपत्ति] स्वीकार, अंगीकार (विसे २६१४)।

संपडिवाइअ वि [संप्रतिपादित] स्थित (उत्त २२, ४६; सुख २२, ४६)। २ स्थापित (दस २, १०)।

संपडिवाय सक [संप्रति + पादय्] संगतन करना, प्राप्त करना। संपडिवायए (दस ६, २, २०)।

संपणादिय } देखो संपणाइय (राज; संपणादिय } कप्प)।

संपणा देखो संपण्णा (दि ८, ८)।

संपणाइय } वि [संप्रणादित] समी-संपणादिय } चीन शब्दवाला; 'सुडियसहसं-पणाइया' (जीव ३, ४—पत्र २२४; पत्र २२७ टी)।

संपणाम सक [संप्र + नामय्] अर्पण करना। संपणामए (उत्त २३, १७)।

संपणिवाअ } पुं [संप्रणिपात] प्रणाम, संपणिवाय } समीचीन नमस्कार (पंचा ३, १८; चैइय २३७)।

संपणुण वि [संप्रनुत्र] प्रेरित, उत्तेजित; 'अन्तंउचंजानिसंपणुणविलोलजालासयसं-कुलम्भि' (उपपं ४५) ।

संपणुह्ण } सक [संप्र + मुद्] प्रेरणा  
संपणोह्ण } करना । संकृ. संपणुह्णिया,  
संपणोह्णिया (दस ५, १, ३०) ।

संपण देखो संपन्न (शाया १, १—पत्र ६;  
हेका ३३१; नाट—मृच्छ ६) ।

संपण्णा स्त्री [दे] धेवर वा धीवर (मिष्टान्त-  
विशेष) बनाने का आटा, गेहूँ का वह आटा  
जिसका घृतपूर बनता है (दे ८, ८) ।

संपत्त वि [संप्राप्त] १ सम्यक् प्राप्त (शाया  
१, १; उवा; विपा १, १; महा; जो ५०) ।  
२ समागत, आया हुआ (सुपा ४१६) ।

संपत्त पुंन [संपात्र] सुन्दर पात्र, सुपात्र  
(सुपा ४१६) ।

संपत्ति स्त्री [संपत्ति] १ समृद्धि, वैभव,  
संपदा (पात्र; प्रानू ६६; १२८) । २ संसिद्धि ।  
३ पूजि; 'तव दोहलस्त संपत्ती भविस्तद्'  
(विपा १, २—पत्र २७) ।

संपत्ति स्त्री [संप्राप्ति] लाभ, प्राप्ति (चिइय  
८६४; सुपा २१०) ।

संपत्तिआ स्त्री [दे] १ बाला, कुमारी; लड़की  
(दे ८, १८; वज्जा ११६) । पिप्यलो-पत्र,  
पीपल की पत्ती (दे ८, १८) ।

संपत्थिअ न [दे] शीघ्र, जलदी (दे ८, ११) ।

संपत्थिय } वि [संप्रत्थित] १ जिसने  
संपत्थियत } प्रयाण किया हो वह, प्रयात,  
प्रस्थित (अंत २१; उप ६६६; सुपा १०७;  
६५१; शाया १, २—पत्र ३२) । उपस्थित;  
'गहियाउहेहि जइविहु रक्त्तजइ पंजरोवरच्छो  
(? लब्धो)वि । तहविहु मरइ निरुत्तं पुरिसो  
संपत्थिए काले ॥'

(पउम ११, ६१) ।

संपदं अ [सांप्रतम्] १ युक्त, उचित (प्राकृ  
१२) । २ अधुना, अब (अभि ५६) ।

संपदत्त वि [संप्रदत्त] दिया हुआ, अर्पित  
(महा; प्राप) ।

संपदाण देखो संपयाण (शाया १, ८—पत्र  
१५०; आचा २, १५, ५) ।

संपदाय पुं [संप्रदाय] गुरु-परंरागत उपदेश,  
ग्राम्नाय (संबोध ५३; वमंसं १२३७) ।

संपदावण न [संप्रदापन, संप्रदान] कारक-  
विशेष, 'तत्तिआ करणम्मि कता चउत्थी  
संपदावणे' (ठा ८—पत्र ४२७) ।

संपदि देखो संपइ = संप्रति (प्राकृ १२) ।

संपदि देखो संपत्ति = संपत्ति (संवि ६; पि  
२०४) ।

संपधार देखो संपहार = संप्र + धारय् ।  
संपधारेदि (शौ) (नाट—मृच्छ २१६) ।  
कर्म. संपधारोअदु (शौ) (पि ५४३) ।

संपधारणा स्त्री [संप्रधारणा] व्यवहार-विशेष,  
धारणा-व्यवहार (वव १०) ।

संपधारिय वि [संप्रधारित] निश्चित, निर्णीत  
(सण) ।

संपधूमिय वि [संप्रधूमित] धूप-वासित,  
धूप दिया हुआ (कस; कण्य; आचा २, २,  
१, १) ।

संपन्न वि [संपन्न] १ संपत्ति-युक्त (भग;  
महा; कण्य) । २ संसिद्ध (विपा १, २—पत्र  
२६) ।

संपप देखो संपाव ।

संपपुज्ज अक [संप्र + पुज्] सत्य ज्ञान  
को प्राप्त करना । संपपुज्जंति (पंचा ७, २३) ।

संपमज्ज सक [संप्र + मृज्] मार्जन करना,  
भाड़ना, साफ-सूफ करना । संपमज्जेइ (श्रौप  
४४) । संकृ. संपमज्जेत्ता, संपमज्जिय  
(श्रौप; आचा २, १, ४, ५) ।

संपमार सक [संप्र + मारय्] मूर्च्छित  
करना । संपमारण (आचा १, १, २, ३) ।

संपय वि [सांप्रत] विद्यमान, वर्तमान;  
'पाएण संपए चिय कालम्मि न याइदीहका-  
लएणा' (विसे ५१६) ।

संपयं देखो संपदं (पात्र; महा; सुपा ५६८) ।  
संपयट्ट अक [संप्र + वृत्] सम्यक् प्रवृत्ति  
करना । संपयट्टेज्जा (वमंसं ६३१) । वकृ.  
संपयट्टंतं (पंचा ८, १४) ।

संपयट्ट वि [संप्रवृत्त] सम्यक् प्रवृत्त (सुर  
४, ७६) ।

संपया स्त्री [संपद] १ समृद्धि, संपत्ति,  
लक्ष्मी, विभव (उवा; कुमा; सुर ३, ६८;  
महा; प्रासू ६६) । २ वाक्यों का विश्राम-

स्थान (पव १) । ३ प्राप्ति; 'बोहीलाभो  
जिएवम्मसंपया' (चिइय ६३१; पव ६२) ।  
६२) । ४ एक वणिक्-स्त्री का नाम (उप  
५६७ टी) ।

संपयाण न [संप्रदान] १ सम्यक् प्रदान,  
अच्छी तरह देना, समर्पण (आचा २, १५,  
५; गा ६८; सुपा २६८) । २ कारक-विशेष,  
चतुर्थी-कारक, जिसको दान दिया जाय वह  
(विसे २०६६) ।

संपयावण देखो संपदावण; चउत्थी संपयावणे'  
(अणु १३३) ।

संपराइग } वि [सांपरायिक] संपराय-  
संपराइय } संबन्धी, संपराय में उत्पन्न (ठा  
२, १—पत्र ३६; सूत्र १, ८, ८; भग;  
आवक २२६) ।

संपराय पुं [संपराय] १ संसार, जगत् (सूत्र  
१, ५, २, २३; दस २, ५) । २ क्रोध आदि  
कपाय (ठा २, १—पत्र ३६) । ३ वादर  
कपाय, स्थूल कपाय (सूत्र १, ८, ८) । ४  
कपाय का उदय (श्रौप) । ५ युद्ध, संग्राम,  
लड़ाई (शाया १, ६—पत्र १५७; कुप्र  
४००; विक्र ८८; दस २, ५) ।

संपरिक्कित्ति पुं [संपरिक्कीत्ति] राजस वंश  
का एक राजा, एक लंका-पति (पउम ५,  
२६०) ।

संपरिक्ख सक [संपरि + ईक्ष्] सम्यक्  
परीक्षा करना । संकृ. संपरिक्खाए (संबोध  
२१) ।

संपरिक्खित्त } वि [संपरिक्षित्त] वेष्टित  
संपरिक्खित्त } (भग; पउम, ३, २२; शाया  
१, १ टी—पत्र ४) ।

संपरिफुड वि [संपरिस्फुट] सुस्पष्ट, अति  
व्यक्त (पउम ७८, १६) ।

संपरिखुड वि [संपरिखृत] १ सम्यक् परि-  
वृत, परिवार-युक्त (विपा १, १—पत्र १;  
उवा; श्रौप) । २ वेष्टित (सूत्र २, २, ५५) ।

संपरी सक [संपरी + इ] पर्यटन करना,  
भ्रमण करना । संपरीइ (विसे १२७७) ।

संपल (अप) अक [सं + पत्] आ गिरना ।  
संपलइ (पिम) ।

संपलगा वि [संप्रलग्न] १ संयुक्त, मिला  
हुआ । २ जो लड़ाई के लिए भिड़ गया हो  
वह (शाया १, १८—पत्र २३६) ।



संपलत्त वि [संप्रलपित] उक्त, कथित, प्रतिपादित (शाया १, २—पत्र ८६)।

संपललिय वि [संप्रललित] जिसका अच्छी तरह बालन हुआ हो वह; 'सुहृदसंपललिया' (श्रीप)।

संपल्लिअ पुं [संपल्लित] एक जैन महर्षि (कप्प)।

संपल्लिअंक पुं [संपर्यङ्क] पञ्चासन (भग; श्रौत; कप्प; राय १४५)।

संपल्लित्त वि [संप्रदीप्त] प्रज्वलित, सुलगा हुआ (शाया १, १—पत्र ६३; पद्य २२, १६; वर्मसं ६७०; सुपा २६८; महा)।

संपल्लिमज्ज सक [संपरि + मज्ज] प्रमार्जन करना। वक्र. संपल्लिमज्जमाण (आचा १, ५, ४, ३)।

संपल्लो सक [संपरि + ल] जाना, गति करना। संपल्लित (सूत्र १, १, ३, ७)।

संपवेय } अक [संप्र + वेप्] कांपना।  
संपवेय } संपवेयए, संपवेवए (आचा २, १६, ३)।

संपवेस पुं [संप्रवेश] प्रवेश, पैठ (गउड)।

संपव्वय सक [संप्र + व्रज्] गमन करना, जाना। वक्र. संपव्वयमाण (आचा १, ५, ५, ३; ठा ६—पत्र ३५२)। हे. संपव्व-इत्तए (कत्त)।

संपसार पुं [संप्रसार] एकत्रित होना, सम-वाय (राज)।

संपसारग } वि [संप्रसारक] १ विस्तार-  
संपसारय } रक, फैलानेवाला (सूत्र १, २, २, २८)। २ पर्यालोचनकर्ता (आचा १, ५, ४, ५)।

संपसारि वि [संप्रसारि] ऊपर देखो (सूत्र १, ६, १६)।

संपसिद्ध वि [संप्रसिद्ध] अत्यन्त प्रसिद्ध (वर्मसं ८३७)।

संपस्स सक [सं + दृश्] १ अच्छी तरह देखना। विचार करना। संक्र. संपस्सिय (वसन् १, १८)।

संपहार सक [संप्र + धारय] १ चितन करना। २ निर्णय करना, निश्चय करना। संपहारैति (सुख १, १५)। भूका. संपहारिस्सु

(सूत्र २, १, १४; २६)। संक्र. संपहारिऊण (स १०६)।

संपहार पुं [संप्रधार] निश्चय, निर्णय (पद्य १६, २६; उप १०३१ टी; भवि)।

संपहार पुं [संप्रहार] युद्ध, लड़ाई (ने ८, ४६)।

संपहारण न [संप्रधारण] निश्चय (पद्य ४८, ६८)।

संपहाव सक [संप्र + धाव्] दौड़ना। संपहावेइ (आचा २, १, ३, ३)।

संपहिट्ठि वि [संप्रहृष्ट] हर्षित, प्रमुदित (उत्त १५, ३)।

संपा क्री [दि] कांचो, मखला, करवनी (दि ८, २)।

संपाइअव वि [संपादितयत्] जिन्ने सम्पादन किया हो वह (हे ४, २६५; विसे ६३४)।

संपाइम वि [संपातिम] १ अमर, कीट, पतंग आदि उड़नेवाला जंतु (आचा: पिड २४; सुपा ४६१; श्रोव ३४८)। २ जानेवाला, गति-कर्ता; 'तिरिच्छसंपाइमा वा तसा पाणा' (आचा २, १, ३, ६; २, ३, १, १४)।

संपाइय वि [संपातित] १ आगत, आया हुआ। २ मिलित, मिला हुआ (भवि)।

संपाइय वि [संपादित] सावित, सिद्ध किया हुआ; 'संपाइयइडुफलि' (सण)।

संपाऊण सक [संप्र + आप्] अच्छी तरह प्राप्त करना। संपाऊणइ, संपाऊणति (उत्त २६, ५६; पि ५०४)। भवि. संपाऊणिस्सामो (शाया १, १८—पत्र २४१)। प्रयो. 'जिणप्पायां परं चैव सिद्धिं संपाऊणैज्जासि' (उत्त ११, ३२)।

संपाओ अ [संप्रातर] १ जब प्रभात होय तब, प्रातःकाल। २ अति प्रभात, बड़ी सुबह। ३ हर प्रभात (ठा ३, १ टी—पत्र ११८)।

संपागड वि [संप्रकट] प्रकट, खुला; संपागडपडिसेवी (ठा ४, १—पत्र २०३; उव)।

संपाड सक [सं + पादय] १ सिद्ध करना, निष्पन्न करना। २ प्रायित वस्तु देना,

दान करना। ४ प्राप्त करना; 'दिइ सो जम्मगियं, संपाइइ वत्थाभरसाइयं' (महा), 'संपाइमि भयवशो माणं ति' (स ६८४), संपाइउ (स ६६)। कृ. संपाइयव्व (स २१४)।

संपाइग वि [संपादक] कर्ता, निर्माता; 'ता को अश्रो तस्सुप्रइणं संपाइगो होज्जा' (उप १४२ टी)।

संपाइण न [संपादन] १ निष्पादन (स ७४८)। २ करण, निर्माण (पंचा ६, ३८), 'परख्वसंपाइणिकरनिग्रत्तं' (सा ११)।

संपाइअ वि [संपादित] १ सिद्ध किया हुआ, निष्पादित (स २१४; गुर २, १७०)। २ प्राप्त किया हुआ (उप पृ १२४)। ३ दत्त, ग्रहित (स २३५)।

संपातो देखो संपाओ (ठा ३, १—पत्र ११७)।

संपाइ (शौ) देखो संपाइ = सं + पादय। संपाइदि (नाट—शुकु ६५)। कृ. संपाइणाअ (नाट—विक्र ६०)।

संपाइइत्तअ (शौ)। वि [संपपादवित्] संपादन-कर्ता, संपादक (पि ६००)।

संपाइअवद (शौ) देखो संपाइअव (पि ५८६)।

संपाय पुं [संपात] सम्यकपतन; 'सलिल-संपायकयकदुष्पोलयं' (सुर ३, ११६)। २ संबन्ध, संयोग; 'सारीरमाणसाणोवदुक्खसंपायकलियं ति' (सुर ४, ७५; गउड) ३ व्यर्थ का झूठ, निरर्थक अत्यन्त-भाषण (परह १, ५—पत्र ६२)। संग, संगति (आ ६; पंचा १, ४१)। ५ आगमन (पंचा ७, ७२)। ६ चलन, हिलन (उत्त १८, २३; सुख १८, २३)।

संपाय देखो संपाओ (राज)।

संपायग वि [संपादक] संपादन-कर्ता (उप पृ २६; महा; चैइय ६०५)।

संपायग वि [संप्रापक] १ प्राप्त करनेवाला; 'रिसियुणसंपायगो होइ' (चैइय ६०५)। २ प्राप्त करानेवाला (उप पृ २६)।

संपायण देखो संपाइण (सुर ४, ७३; सुपा २८; ३४३; चैइय ७६७)।

संपायणा व्री [संपादना] ऊपर देखो (पंचा १३, १७)।

संपाल सक [सं + पालय्] पालन करना। संपालइ (भवि)।

संपाव सक [संप्र + आप्] प्राप्त करना। संपावेइ (भवि)। संक्र. संपप्प (संवेग १२)।

हेक्र. संपाविड<sup>०</sup> (सम १; भग; सौप)।

संपाव सक [संप्र + आपय्] प्राप्त करवाना। संपावेइ (उवा)।

संपावण न [संप्रापण] प्राप्ति, लाभ (गाया १, १८—पत्र २४१; सुर १४, ५७)।

संपाविअ वि [संप्राप्त] प्राप्त, लब्ध (सुर २, २२६; सुपा १६५; सण)।

संपाविअ वि [संप्रापित] नीत, जो ले जाया गया हो वह (राज)।

संपासंग वि [दे] दीर्घ, लम्बा (दे ८, ११)।

संपिण्डण न [संपिण्डन] १ द्रव्यों का परस्पर संयोजन (पिंड २)। २ समूह (शोध ४०७)।

संपिण्डिअ वि [संपिण्डित] पिएडाकार किया हुआ, एकत्र किया हुआ (श्रौप; जी ४७; सण)।

संपिकख देखो संपेह = संप्र + ईक्ष्। संपि-बखई (दसचू २, १२)।

संपिड वि [संपिष्ट] पिसा हुआ (सूत्र १, ४, ८)।

संपिणद्ध वि [संपिनद्ध] नियन्त्रित; 'रञ्जु-पिणद्धो व इंदकेतु विमुद्धयेगमुणसंपिणद्ध' (पएह २, ४—पत्र १३०)।

संपिहा सक [समपि + धा] आच्छादन करना, ढकना। संक्र. संपिहिताणं (पि ५८३)।

संपीड पुं [संपीड] संपीडन, दवाना (गउड)। देखो संपील।

संपीडिअ वि [संपीडित] दवाया हुआ (गउड १४४)।

संपीणिअ वि [संप्रीणित] खुश किया हुआ (सण)।

संपील पुं [संपीड] संघात, समूह (उत्त ३२, २६)।

संपीळा व्री [संपीडा] पीड़ा, दुःखानुभव (उत्त ३२, ३६; ५२; ६५; ७८)।

संपुच्छ सक [सं + प्रच्छ] पूछना, प्रश्न करना। संपुच्छदि (शौ) (नाट—विक्र २१)।

संपुच्छण व्रीन [संप्रच्छन, संप्रश्न] प्रश्न, पूछना (सूत्र १, ६, २१; सुपा २१)।

व्री. °णी (दस ३, ३)।

संपुच्छणी व्री [संपुच्छनी] भाइ, संमार्जनो (राय २१)।

संपुज्ज वि [संपूज्य] संमाननीय, आदरणीय (पंउम ३३, ४७)।

संपुड पुं [संपुट] १ जुड़े हुए दो समान अंश वाली वस्तु, दो समान अंशों का एक दूसरे से जुड़ना; 'कवाडसंपुडयणम्मि' (घण ३), 'दलसंपुडे' (कण्; महा; भवि; से ७, ५६)।

२ संचय, समूह (सूत्र १, ५, १, २३)। °फलग पुं [°फलक] दोनों तरफ जिल्द बंधी पुस्तक, हिसाब की वही के समान किताब (पव ८०)।

संपुड सक [संपुटय्] जोड़ना, दोनों हिस्सों को मिलाना। संपुडइ (भवि)।

संपुडिअ वि [संपुटित्] जुड़ा हुआ (गाया १, १—पत्र ६३)।

संपुण्य वि [संपूर्ण] १ पूर्ण, पूरा (उवा; महा)। २ न. दश दिनों का लगातार उपवास (संवेव ५८)।

संपूअ सक [सं + पूज्य] सम्मान करना, अभ्यर्चना करना। संक्र. संपूइऊण (पंचा ८, ७)।

संपूजिय वि [संपूजित] अभ्यर्चित (महा)।

संपूयण न [संपूजन] पूजन, अभ्यर्चना (सूत्र १, १०, ७; धर्मसं ६३४)।

संपूरिय वि [संपूरित] पूर्ण किया हुआ, 'संपूरियदोहला' (महा; सण)।

संपेह पुं [संपीड] दवाव (पउम ८, २७२)।

संपेस सक [संप्र + इप्] भोजना। संपेसइ (महा; भवि)।

संपेस पुं [संप्रेप] प्रेषण, भोजना (गाया १, ८—पत्र १४७)।

संपेसण न [संप्रेपण] ऊपर देखो (गाया १, ८—पत्र १४६; स ३७६; गउड; भवि)।

संपेसिय वि [संप्रेपित] भेजा हुआ (सुर १६, ११५)।

संपेह सक [संप्र + ईच्] देखना, निरीक्षण करना। संपेहइ, संपेहेइ (दसचू २, १२; पि ३२३; भग; उवा; कण्)। संक्र. संपेहाए, संपेहिता (आवा १, २, ४, ४; १, ५, ३, २; सूत्र २, २, १; भग)।

संपेहा व्री [संप्रेक्षा] पर्यालोचन (आवा १, २, २, ६)।

संप न [दे] कुमुद, चन्द्र-कमल (दे ८, १)।

संपाल सक [सं + पाटय्] फाड़ना, चोरना। संपालइ (भवि)।

संपाली व्री [दे] पंक्ति, श्रेणि (दे ८, ५)।

संपास सक [सं + स्पृश्] स्पर्श करना, छूना; 'माड्डाणं संपासे' (आवा २, १, ३, ३; २, १, ५, ५; २, १, ६, २; ४, ५)।

संपास पुं [संपर्श] स्पर्श (आवा; उप ६४८ टी; पव २ टी; हे १, ४३; पडि)।

संपासण न [संपर्शन] ऊपर देखो; 'आणावीरियसंपासणभावतो' (पंचा १०, २८)।

संपिट्ट पुं [दे] संयोग, मेलन (आ १६)।

संपुह्ल वि [संपुह्ल] विकसित (आक्र १४)।

संपुसिय वि [संपुष्ट] प्रमाजित; 'दसणकर-नियरसंपुसियदिसिमुहमला' (सुपा २६३)।

संव पुं [शाम्भ] १ श्रोत्राण वासुदेव का एक पुत्र (गाया १, ५—पत्र १००; अंत १४)।

२ राजा कुमारपाल के समय का एक सेठ (कुप्र १४३)।

संव पुंन [शाम्भ] वज्र, इन्द्र का आग्रुध (सुर १६, ५०)।

संवंध सक [सं + वन्ध्] १ जोड़ना। २ नाता करना। कर्म. संवण्णइ (वेइय ७२७)।

संवंध पुं [संवन्ध] १ संसर्ग, संग (भवि)। २ संयोग (कम्म १, ३५)। ३ नाता, समाई, रिश्तेदारी (स्वप्न ४३)। ४ योजना, मेल (वव ५)।

संवंधि वि [संवन्धिन्] सम्बन्ध रखनेवाला (उवा; सम्म ११७; स ५३६)।

संवर पुं [शाम्बर] मृग-विशेष, हरिण को एक जाति (पएह १, १—पत्र ७; दे ८, ६; कुप्र ४२६)।

संवल पुंन [शम्बल] १ पाथेय, रास्ते में खाने का भोजन; 'बन्नाएँ चिय परलोयसंवलो मिलइ नत्ताएँ' (सम्मत्त १५७; पाथ; सुर १६, ५०; दे ६, १०८; महा; भवि; सुपा ६४) । २ एक नागकुमार देव (आवम) ।

संवलि देखो सिंवलि = शिम्बलि (ग्राचा २, १, १०, ४) ।

संवालि पुंनो [शाल्मलि] वृक्ष-विशेष, नेमज का पेड़ (सुर २, २३४; ८, ५७) । देखो सिंवलि ।

संवाधा देखो संवाहा (पटम २, ८६) ।

संवाह सक [सं + वाध्] १ पीड़ा करना । २ दवाना, चप्पी करना । संवाहज्जा (निचु ३) ।

संवाह पुं [संवाध] १ नगर-विशेष, जहाँ ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की प्रभूत वस्ती हो वह शहर (उत्त ३०, १६) । २ पीड़ा; 'संवाहा वहवे बुज्जो दुइइक्कमा अजाणओ अपात्तओ' (ग्राचा) । ३ वि. संकीर्ण, सकरा; 'संवाहं संकिरणं' (पाथ) ।

संवाहण न [संवाधन] देखो संवाहण (ग्राचा १, ६, ४, २) ।

संवाहणा व्री [संवाधना] देखो संवाहणा (श्रीप) ।

संवाहणी व्री [संवाधनी] विद्या-विशेष (पटम ७, १३७) ।

संवाहा व्री [संवाधा] १ पीड़ा (ग्राचा १, ५, ४, २) । २ अंग-मर्दन, चप्पी (निचु ३) ।

संवाहिय वि [संवाधित] १ पीड़ित (सुप्र १, ५, २, १८) । २ देखो संवाहिय (श्रीप) ।

संवुक् पुं [शम्बुक] १ शंख (ठा ४, २—पत्र २१६; सुपा ५०; १६५) । २ रावण का एक नागितेय—अरद्वेषण का पुत्र (पटम ४३, १८) । ३ एक गाँव का नाम (राज) । विट्ठा व्री [विर्ता] शंख के आवर्त के समान निज्ञा-चर्चा (उत्त ३०, १६) । देखो संवुअ ।

संवुज्ज सक [सं + वुज्] समझना, ज्ञान पाना । संवुज्जइ, संवुज्जंति, संवुज्जइ (महा;

स ४८६; सुप्र १, २, १, १; व ७३) । वक्र. संवुज्जमाण (ग्राचा १, १, २, ५) ।

संवुद्ध वि [संवुद्ध] ज्ञान-प्राप्त (उवा; महा) । संवुद्धि व्री [संवुद्धि] ज्ञान, बोध (अज्ज ३६) ।

संवुअ पुं [शम्बुक] जल-शुक्ति, शुक्ति के आकार का जल-जंतु-विशेष (दे ८, १६; गडड) ।

संवोधि व्री [संवोधि] सत्य धर्म की प्राप्ति (धम्मं १३६६) ।

संवोह सक [सं + वोधय्] १ समझना, बुझाना । २ आमन्त्रण करना । ३ विज्ञप्ति करना । संवोहइ, संवोहइ (भवि; महा) । क्वक. संवोहिज्जमाण (खाया १, १४) । क. संवोहेअव्य (ठा ४, ३—पत्र २४३) ।

संवोइ पुं [संवोध] ज्ञान, बोध, समझ (आत्त २०) ।

संवोहण न [संवोधन] १ ऊपर देखो (वित्ते २३३२; सुख १०, १; वेइय ७७५) । २ आमन्त्रण (गडड) । ३ विज्ञप्ति (खाया १, ८—पत्र १५१) ।

संवोहि देखो संवोधि (उप पृ १७६, वै ७३) ।

संवोहिअ वि [संवोधित] १ समझाया हुआ (यति ४८) । २ विज्ञापित (खाया १, ८—पत्र १५१) ।

संभंत वि [संभ्रान्त] १ नीत, घबड़ाया हुआ, व्रस्त (उत्त १८, ७; महा; गडड) । २ पुंन. प्रथम नरक का पाँचवाँ नरकेन्द्रक—नरकस्थान-विशेष (देवेन्द्र ४) । ३ न. भय, घबराहट (महा) ।

संभंति व्री [संभ्रान्ति] संभ्रम, उत्सुकता (भग १६, ५—पत्र ७०६) ।

संभंतिय वि [संभ्रान्तिक] संभ्रम से बना हुआ (भग १६, ५—पत्र ७०६) ।

संभग्ग वि [संभग्न] चूर्णित (उत्त १६, ६१) ।

संभण सक [सं + भण्] कहना । संक्र. संभणिअ (पिग) ।

संभणिअ वि [संभणित] कथित, उक्त (पिग) ।

संभम सक [सं + भ्रम्] १ यत्तियय भ्रमण करना । २ भ्रम. भय-भीत होना; घबड़ाना । वक्र. संभमंत (पि २७५) ।

संभन पुं [संभ्रम] १ याद; 'संभनो आयारो पयतो य' (पाथ) । २ भय, घबराहट, डोका; 'संलोहो संभनो ताओ' (पाथ; प्राप् १०५; महा) । ३ उत्सुकता (श्रीप) ।

संभर सक [सं + भृ] १ चारण करना । २ पीयण करना । ३ संश्लेष करना, संकोच करना । वक्र. संभरमाण (सि ७, ४१) । संक्र. संभरि (प्रप) (पिग) ।

संभर सक [सं + स्मृ] स्मरण करना, याद करना । संभरेइ, संभरिओ (महा; पि ४५५) । वक्र. संभरंत, संभरमाण (गा २६; सुपा ३१७; सि ७, ४१) । क. संभरणिज्ज, संभरणीअ (धम्मो १८; उप ५३८ टी) ।

संभरण न [संस्मरण] स्मरण, याद (गा २२२; खाया १, १—पत्र ७१, दे ७, २५; उवकु १४) ।

संभरणा व्री [संस्मरणा] ऊपर. देखो (उप ५३० टी) ।

संभराविअ वि [संस्मारित] याद कराया हुआ (दे ८, २५; कुप ४२१) ।

संभरिअ वि [संस्मृत] याद किया हुआ (गडड; काप्र ८६२) ।

संभल सक [सं + भल्] याद करना । संभलइ (उप पृ ११३) । कर्म. संभलित्जइ (वज्जा ८०) । वक्र. संभलि (प्रप) (पिग २६७) ।

संभल सक [सं + भल्] १ सुनना; गुजराती में 'संभलवु' । २ प्रक. सम्मेलना, सावधान होना । संभलइ (भवि); 'संभलसु मह पइन्' (सम्मत्त २१७) । संक्र. संभलि (प्रप) (पिग २८६) ।

संभली व्री [दे. संभली] १ इती (दे ८, ६; व ५) । २ कुट्टनी, पर-पुष्प के साथ धन्य व्री का योग करानेवाली व्री (कुमा) ।

संभव सक [सं + भू] १ उत्पन्न होना । संभावना होना; उत्कट संशय होना । संभवइ

(पि ४७५; काल; नवि)। वक्र. संभवंत (सुपा ५६)। कृ. संभव्य (श्रा १२; सुप्रति ६५)।

संभव पुं [संभव] १ उत्पत्ति (महा; उव; हे ४, ३६५)। २ संभावना (भवि)। ३ वर्तमान अवसर्पिणी काल में उत्पन्न तौसरे जिनदेव का नाम (सम ४३; पडि)। ३ एक जैन मुनि जो दूसरे वामुदेव के पूर्व-जन्म के गुरु थे (पउम २०, १७६)। ५ कला-विशेष (श्रौप)।

संभव पं [दे] प्रसव-जरा, प्रसूति से होने-वाला बुढ़ापा (दे ८, ४)।

संभव (अप) देखो संभ्रम = संभ्रम (नवि)। संभवि वि [संभविन्] जिसका सम्भव हो वह (पंच ५, २५; नात् ३५)।

संभविय देखो संभूअ (चिद्व ५५६)।

संभव्य देखो संभव = सं + भू।

संभाणय न [संभाणक] गुजरात का एक प्राचीन नगर (राज)।

संभार नक [सं + भारय] मसाला से संस्कृत करना; वाकित करना। संभारेड, संभारेंति, संभारेह (शाया १, १२—पत्र १७५; १७६)। संक्र. संभारिय (पिड १६३)। कृ. संभारिणज (शाया १, १२)।

संभार पुं [संभार] १ समूह, जत्या: 'उत्तुंग-यंभसंभारभासमाणं करावए राया' (उप ६४८ वी; श्रावक १३०)। २ मसाला, शक आदि में ऊपर डाला जाता मसाला (शाया १, १६—पत्र १६६)। ३ परिग्रह, द्रव्य-संचय (पएह १, ५—पत्र ६२)। ४ अवश्यतया कर्म का वेदन (सूत्र २, ७, ११)।

संभारिअ वि [संभारित] याद किया हुआ (से १४, ६५)।

संभारिअ वि [संभारित] याद कराया हुआ (शाया १, १—पत्र ७१; सुर १४, २३५)।

संभाल सक [सं + भालय] संभालना। संभालइ (भवि)।

संभाल पुं [संभाल] खोज, अन्वेषण; 'उदिए-सूरमि जान जएणोए प्रायपणामनिमित्तं समागयो ताव संभालो जायो वेस्स, न कट्यवि जाव पउत्ती कहंवि उव्वलहा' (उप २२० वी)।

संभालिय वि [संभालिय] संभाला हुआ (सण)।

संभाव सक [सं + भावय] १ संभावना करना। २ प्रसन्न नजर से देखना; 'न संभावसि अवरोह' (मोह ६); संभावमि (संवेग ४); सम्भवेहि मोह २६)। कर्म. संभावीयदि (शौ) (नाट—मृच्छ २३०)। वक्र. संभावयंत (नाट—शकु १३४)। संक्र. संभाविअ (नाट—शकु ६७)। कृ. संभावणिज, संभावणीय (उप ७६८ वी; स ६१; श्रा २३)।

संभाव अक [लुभ] लोभ करना, आसक्ति करना। संभावइ (हे ४, १५३; पड)।

संभावणा लो [संभावना] संभव (से ८, १६; गउड)।

संभावि वि [संभाविन्] जिसका संभव हो वह (श्रा १४)।

संभाविअ वि [संभाविअ] जिसकी संभावना की गई हो वह (नाट—विक्र ३४)।

संभास सक [सं + भाप्] बातचीत करना, आलाप करना। कृ. संभासणीय (सुपा ११५)।

संभास पुं [संभाप्] संभाषण, वार्तालाप (उप ४ ११२; संवोव २१; वए; काल; सुपा ११५; ५४२)।

संभासण न [संभासण] ऊपर देखो (नवि)।

संभासा लो [संभासा] संभाषण, बातचीत (श्रौप)।

संभासि वि [संभास] संभाषण; 'संभासि-स्साणरिहो' (काल)।

संभासिय वि [संभासिय] जिसके साथ संभाषण—वार्तालाप किया गया हो वह (महा)।

संभेडण न [संभेदन] आघात (गउड)।

संभिण्ण वि [संभिन्न] १ परिपूर्ण (पत्र संभिन्न) १६८)। २ किंचिद् न्यून, कुछ कम (देवेन्द्र ३४२)। ३ व्याप्त। ४ विल-कुल भिन्न—भेदनाला (पएह २, १—पत्र ६६)। ५ खंडित (दसवू १, १३)। °सोअ वि [°श्रोतस् °श्रोत्] लब्धि-विशेषवाला, शरीर के कोई भी अंग से शब्द को स्पष्ट रूप

से सुनने की शक्तिवाला (पएह २, १—पत्र ६६; श्रौप)।

संभिन्न न [दे] आघात (गउड ६३४ वी)।

संभिय वि [संभृत] १ पुष्ट, 'आरंभसंभिया' (सूत्र १, ६, ३)। २ संस्कार-युक्त, संस्कृत; 'वहसंभारसंभिए' (शाया १, १६—पत्र १६६; स ६८; वित्ते २६३)।

संसु पुं [शंभु] १ शिव, शंकर (सुपा २४०; सार्धं १२५; सपु १५०)। २ रावण का एक सुभट (पउम ५६, २)। ३ छन्द-विशेष (पिग)। °वरिणी लो [°गृहिणी] गौरी, पार्वती (सुपा ४४२)।

संसुज सक [सं + सुज] साय भोजन करना, एक मण्डली में बैठकर भोजन करना। संभुजइ (कत)। हेक. संसुजित्तए (सूत्र २, ७, १६; ठा २, १—पत्र ५६)।

संसुजणा लो [संभोजना] एकत्र भोजन-व्यवहार (पंच)।

संसुइ वि [दे] दुर्जन, खल (दे ८, ७)।

संभूअ वि [संभूत] १ उत्पन्न, संजात (सुपा ४०; ५०७; महा)। २ पुं. एक जैन मुनि जो प्रथम वामुदेव के पूर्वजन्म में गुरु थे (सम १५३; पउम २०, १७६)। ३ एक प्रसिद्ध जैन महापि जो स्थूलभद्र मुनि के गुरु थे (धर्मवि ३८; सार्धं १३)। ४ व्यक्ति-वाचक नाम (महा)। °विजय पुं [°विजय] एक जैन महापि (कुप्र ४५३; विपा २, ५)।

संभूइ ली [संभूति] १ उत्पत्ति (पउम १७ ६८; गा ६५४; सुर ११, १३५; पव २४४)। २ श्रेष्ठ विभूति (सार्धं १३)।

संभूस सक [सं + भूप] अलंकृत करना। संभूसइ (सण)।

संभोअ पुं [संभोग] सुन्दर भोग (सुपा ४६८; कप्प)। देखो संभोग।

संभोइअ वि [सांभोगिक] समान सामाचारी-क्रियानुष्ठान होने के कारण जिसके साथ खान-पान आदि का व्यवहार हो सके ऐसा साधु (घोषभा २०; पंचा ५, ४१; द्र ५०)।

संभोग पुं [संभोग] समान सामाचारीवाले साधुओं का एकत्र भोजनादि-व्यवहार (सम २१; श्रौप; कत)।

संभोगि वि [ संभोगिन् ] देखो संभोइअ  
(कुप्र १७२)।

संभोगिय देखो संभोइय (ठा ३, ३—पत्र  
१३६)।

संमइ व्री [संमति] १ अनुमति (सूय १, ८,  
१४; विवे २२०६)। २ पुं. वायुकाय, पवन।  
३ वायुकाय का अविष्ठाता देव (ठा ५, १—  
पत्र २६२)।

संमज्ज पुं [संमार्ज] संमार्जन, नाफ करना  
(विवे ६२५)।

संमज्जग पुं [संमज्जक] वानप्रस्थ तापसों  
की एक जाति (श्रौप)।

संमज्जण न [संमार्जन] नाफ करना, प्रमार्जन  
(अग्नि १५६)।

संमज्जणी व्री [संमार्जनी] भाड़ू (दे ६,  
६७)।

संमज्जिय वि [संमार्जित] साफ किया हुआ  
(गुपा ५४; श्रौप; भवि)।

संमट्ट वि [संमृष्ट] १ प्रमार्जित, सफा किया  
हुआ (राय १००; श्रौप, पत्र १३३)। २ पूर्ण  
नरा हुआ (जोवस ११६; पत्र १५८)।

संमट्टु पुं [संमर्द] १ बुद्ध, लड़ाई (हे २,  
३६)। २ परस्पर संघर्ष (हे २, ३६;  
कुमा)।

संमड्डिअ वि [संमर्दित] संघट्ट (हे २, ३६)।

संमद सक [सं + मृद्] नर्दना करना।  
संक्र. संमर्दिआ (दस ५, २, १६)।

संमद देखो संमट्टु (उप १३६ टी; पात्र; दे  
१, ६३; गुपा २२२; प्राहु ८६)।

संमदा व्री [संमर्दा] प्रत्युपेक्षणा-विशेष, वक्र  
के कोनों को मध्य भाग में रखकर अथवा  
उपवि पर बैठकर जो प्रत्युपेक्षणा—निरो-  
क्षण को जाय वह (श्रौप २६६; श्रौवभा  
१६२)।

संमय वि [संमत] १ अनुमत। २ अनीष्ट  
(उप)।

संमयिय वि [संमापित] नापा हुआ (भवि)।

संमा सक [सं + मा] समाना, अटना।  
संमाइ (कुप्र २७७)।

संमाग सक [सं + मानय्] आदर करना,  
गौरव करना। संमाणइ, संमाणैइ, संमाणित्ति,

संमाणेमो (भवि; उवा; महा; कप्प; पि  
४७०)। भवि. संमाणैहिंति (पि ५२८)।

वक्र. संमाणंत, संमाणेत (सुपा २२४;  
पउम १०५, ७६)। संक्र. संमाणिऊण,

संमाणेऊण, संमाणित्ता (महा; कप्प)।  
कवक्र. संमाणिज्जमाण (काल)। कृ. संमा-

णणिज्ज (साया १, १ टी—पत्र ४; उवा)।

संमाण पुं [संमान] आदर, गौरव (उव; हे  
४, ३१६; नाट—मालवि ६३)।

संमाणण न [संमानन] ऊपर देखो (सुपा  
२०८)।

संमाणिय वि [संमानित] जिसका आदर  
किया गया हो वह (कप्प; महा)।

संमिद (शौ) वि [संमित] १ तुल्य, समान।  
२ समान परिमाणवाला (अग्नि १८६)।

संमिल सक [सं + मिल] मिलना। संमि-  
लइ (भवि)।

संमिलिअ वि [संमिलित] मिला हुआ  
(भवि)।

संमिल्ल सक [सं + मील] संकुचाना,  
संकोच करना। संमिल्लइ (हे ४, २३२; पड;  
वात्वा १५५)।

संमिस्स वि [संमिश्र] १ मिला हुआ, युक्त  
(महा)। २ उलड़ी हुई छालवाला (आचा  
२, १, ८, ६)।

संमील देखो संमिल्ल। संमीलइ (हे ४, २३२;  
पड)।

संमीलिअ वि [संमीलित] संकुचित (सि १२,  
१)।

संमीस देखो संमिस्स (सुर २, १११; सण)।

संमुइ पुं [संमुचि] भारतवर्ष में भविष्य में  
होनेवाला एक कुलकर पुत्र्य (ठा १०—पत्र  
५६८)।

संमुच्छ सक [सं + मूर्च्छ] उत्पन्न  
होना। 'एतासि ए लेसाणं अंतरेसु अणुत्त-  
रंभो छिण्णलेसाओ संमुच्छंति' (सुज ६)।

संमुच्छण व्रीन [संमूर्च्छन] व्री-मुख्य के  
संयोग के बिना ही बुद्धि की तरह होती  
जीवों की उत्पत्ति (धम्मसं १०१७)। व्री. ँणा  
(धम्मसं १०३१)।

संमुच्छिम वि [संमूर्च्छिम] व्री-मुख्य के  
समागम के बिना उत्पन्न होनेवाला प्राणी  
(आचा; ठा ५, ३—पत्र ३३४ सम १४६;  
जो २३)।

संमुच्छिअ वि [संमूर्च्छित] उत्पन्न (सुज  
६)।

संमुज्झ सक [सं + मुह] मोह करना।  
मुख्य होना संमुज्झइ (संवीव ५२)।

संमुत्त देखो संमुत्त (राज)।

संमुस सक [सं + मृश] पूर्ण रूप से स्वरां  
करना। वक्र. संमुसमाण (भग ८, ३—  
पत्र ३६५)।

संमुह वि [संमुख] सामने आया हुआ (हे १,  
२६; ४, ३६५; ४१४; महा)। व्री. ँही  
(काप्र ७२३)।

संमूह वि [संमूह] जड़, विमूह (पात्र; गुपा  
५४०)।

संमेअ पुं [संमेत] १ पर्वत-विशेष जो  
आजकल 'पारसनाथ पहाड़' के नाम से प्रसिद्ध  
है (साया १, ८—पत्र १५४; कप्प; महा;  
सुपा २११; ५८४; विवे १८)। २ राम का  
एक सुमट (पउम ५६, ३७)।

संमेळ पुं [संमेळ] परिजन अथवा मित्रों का  
जिमनवार, प्रीति-नोजन (आचा २, १,  
४, १)।

संमोह पुं [संमोह] १ मूढता, अज्ञान (अणु;  
स ३५८)। २ मूर्च्छा (सिखवा ४२)। ३  
दुःख, कष्ट (सि ३, १३)। ४ संनिपात रोग  
(उप १९०)।

संमोह न [संमोह] १ मिय्यात्व का एक  
भेद—रागी को देव, संगी—परिग्रही को  
गुरु और हिंसा को बर्ष मानता (संवीव ५२)।  
२ वि. संमोह-संवेची (ठा ४, ४—पत्र  
२७४)। व्री. ँहा, ँही (ठा ४, ४ टी—पत्र  
२७४; वृह ?)।

संमोहण न [संमोहन] १ मोहित करना।  
२ मूर्च्छित करना (कुप्र २५०)।

संमोहा व्री [संमोहा] छन्द-विशेष (पिंग)।

संरंभ पुं [संरंभ] १ हिंसा करने का संकल्प,  
'संकप्पो संरंभो' (संवीव ४१; आ ७)। २  
आटोप (कुमा १, २१; ६, ६२)। ३ उद्यम  
(कुमा ५, ७०)। ४ क्रोध, गुस्सा (पात्र)।

संस्कृत्य वि [संस्कृत] अच्यो तरह रखा करनेवाला (शाया १, १८—पत्र २४०) ।  
 संस्कृत्य न [संस्कृत] समीचीन रखा (शाया १, १४; पि ३६१) ।  
 संस्कृत्य देखो संस्कृत्य (उत्त २६, ३१) ।  
 संस्कृत सक [सं + राध्] पकाना । कृ. संस्कृत्यव्य (कुप्र ३७) ।  
 संसंध सक [सं + रुध्] रोकना; अटकाना । कर्म, संबन्धज्जइ, संरुद्धइ (हे ४, २४८) । भवि, संबन्धिहिइ, संबन्धिहिइ (हे ४, २४८) ।  
 संसोह पुं [संसोध] अटकाव (कुप्र ५१; पत्र २३८) ।  
 संसोहणी स्त्री [संसोहणी] धाव को रूकानेवाली औपधि-विशेष (सुपा २१७) ।  
 संसुच सक [सं + लक्ष्य्] पहिचानना । कर्म, संसुचोप्रदि (शौ); (नाट—वेणी ७८) ।  
 संसुग वि [संसुग] लगा हुआ, संयुक्त (सुपा २२६) ।  
 संसुगि वि [संसुगि] संयुक्त होनेवाला, जुड़नेवाला (शौष ६८) ।  
 संसुत वि [संसुत] संभाषित, उक्त, कथित (सुर ३, ६१; सुपा ३२६; ३८५; महा) ।  
 संसुप नीचे देखो ।  
 संसुव सक [सं + लप्] संभाषण करना । संसुवइ, संसुवेमि (महा; पत्र १४८) । वक्र. संसुवमाण (शाया १, १—पत्र १३; कप्प) । कृ. संसुप (राज) ।  
 संसुव पुं [संसुव] संभाषण, वार्तालाप (सुग्रि ५८) ।  
 संसुव सक [सं + लाप्य्] वातचोत करना । संसुविति (कप्प) ।  
 संसुव देखो संसुव = संसुव (शौष; से २, ३६; गडड; आ ६) ।  
 संसुविअ वि [संसुवित] ? उक्त, कथित । २ कहलवाया हुआ (गा १११) ।  
 संसुवि वि [संसुवित] संयुक्त (संबोध १६) ।  
 संसुवि सक [सं + लिख्] ? निर्लेप करना । २ शरीर आदि का शोषण करना, कृया करना । ३ घिसना । ४ रखा करना । संसुविज्जा (आचा २, ३, २, ३) । संसुवि (उत्त ३६, २४६; दस ८, ४; ७) । संकृ. संसुविहिय (कप्प) ।

संसुविहिय वि [संसुविहित] जिसने तपश्चर्या से शरीर आदि का शोषण किया हो वह (स १३०) ।  
 संसुवि वि [संसुवि] संलेखना-युक्त (एदि २०६) ।  
 संसुवि वि [संसुवि] जिसने इन्द्रिय तथा कपाय आदि को कावू में किया हो वह, संवृत (पत्र ६) ।  
 संसुविज्जा स्त्री [संसुविज्जा] तप-विशेष, शरीर आदि का संगोपन (सम ११; नव २८; पत्र ६) ।  
 संसुच सक [सं + लुञ्च्] काटना । कवकृ. संसुचमाण सुणएहि (आचा १, ६, ३, ६) । संकृ. संसुचिआ (दस ५, २, १४) ।  
 संसुहणा स्त्री [संसुहणा] शरीर-कपाय आदि का शोषण, अनशन-व्रत से शरीर-त्याग का अनुष्ठान (सह ११६; सुपा ६४८) ।  
 संसुअ न [संश्रुत] ग्रन्थ-विशेष (एदि २०२) ।  
 संसुहा स्त्री [संसुहा] ऊपर देखो (उत्त ३६, २५०; सुपा ६४८) ।  
 संसुओ पुं [संसुओ] १ दर्शन, अवलोकन (आचा २, १, ६, २; उत्त २४, १६; पत्र ६१) । २ दृष्टि-पात, दृष्टिप्रचार । ३ जगत्, संपूर्ण लोक । ४ प्रकाश (राज) । ५ वि. दृष्टि-प्रचारवाला, जिस पर दृष्टि पड़ सकती हो वह (उत्त २४, १६) ।  
 संसुओ सक [सं + लोक्] देखना । कृ. संसुओकणिज्ज (सुप्र १, ४, १, ३०) ।  
 संसुइयर पुं [संसुइयर] व्यतिसंबन्ध, विपरीत प्रसंग (उव) ।  
 संसुग पुं [संसुग] १ गुणन, गुणाकार (वव १; जीवस १५४) । २ गुणित, जिसका गुणाकार किया गया हो वह (राज) ।  
 संसुच्छर पुं [संसुच्छर] वर्ष, साल (उव; हे २, २१) । पंडिलेहणग न [प्रतिलेखनक] वर्ष-गाँठ, वर्ष की पूर्णता के दिन किया जाता उत्सव (शाया १, ८—पत्र १३१; भग; अंत) ।  
 संसुच्छरिय पुं [संसुच्छरिय] १ ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र का विद्वान् (स ३४; कुप्र ३२) । २ वि. संवत्सर संबन्धी, वार्षिक (वर्मवि १२६; पडि) ।

संसुच्छल देखो संसुच्छर (हे २, २१) ।  
 संसुच्छर सक [सं + वर्तय्] १ एक स्थान में रखना । २ संकुचित करना । संसुच्छरइ (शौष) । संसुच्छरज्जा (आचा १, ८, ६, ३) । संकृ. संसुच्छरिता (ठा २, ४—पत्र ८६), संसुच्छरिता (आचा १, ८, ६, ३) ।  
 संसुच्छर पुं [संसुच्छर] १ पीड़ा (उप २६६) । २ भय-भीत लोगों का समवाय—समूह (उत्त ३०, १७) । ३ वायु-विशेष-तृण को उड़ानेवाला वायु (पणण १—पत्र २६) । ४ अपवर्तन (ठा २, ३—पत्र ६७) । ५ घेरा । ६ जहाँ पर बहुत गाँवों के लोग एकत्रित हो कर रहें वह स्थान, दुर्ग आदि (राज) । देखो संसुच्छर ।  
 संसुच्छरइ वि [संसुच्छरित] तूफान में फँसा हुआ (उप पृ १४३) ।  
 संसुच्छर पुं [संसुच्छर] वायु-विशेष (सुपा ४१) । देखो संसुच्छर ।  
 संसुच्छर न [संसुच्छर] १ जहाँ पर अनेक मार्ग मिलते हों वह स्थान (शाया १, २—पत्र ७६) । २ अपवर्तन (विसे २०४५) ।  
 संसुच्छर पुं [संसुच्छर] अपवर्तन (ठा २, ३—पत्र ६७) । देखो संसुच्छर ।  
 संसुच्छरि वि [संसुच्छरित] संवृत, संकोचित (दे ८, १२) ।  
 संसुच्छरि वि [संसुच्छरित] १ पिंडीभूत, एकत्रित (वव १) । २ संवर्त-युक्त (हे २, ३०) ।  
 संसुच्छरि अक [सं + वृध्] बढ़ना । संसुच्छरइ (महा) ।  
 संसुच्छरि देखो संसुच्छर (अभि ४१) ।  
 संसुच्छरिअ वि [संसुच्छरिअ] बढ़ा हुआ (महा) ।  
 संसुच्छरिअ वि [संसुच्छरिअ] बढ़ाया हुआ (नाट—रत्ना २२) ।  
 संसुच्छर पुं [संसुच्छर] १ प्रलय काल (से ५, ७१; १०, २२) । २ वायु-विशेष; 'जुगंत-सरिसं संवत्तवार्यं विउव्विअण' (कुप्र ६६) । ३ मेघ । ४ मेघ का अधिपति-विशेष । ५ वृद्ध-विशेष, बड़ेका का पड़ । ६ एक स्मृतिकार मुनि (संदि १०) । देखो संसुच्छर = संवर्त ।  
 संसुच्छरि देखो संसुच्छर (हे २, ३०) ।

संवत्तय वि [संवर्तक] १ अपवर्तन-कर्ता ।  
२ पुं. बलदेव । ३ वडवानल (हे २, ३०;  
प्राप्र) ।

संवत्तुवत्त पुं [संवर्तोद्वृत्त] उलट-पुलट (स  
१७४; २५८) ।

संवत्तण न [संवर्धन] १ वृद्धि, बढ़ाव । २  
वि. वृद्धि करनेवाला (भवि; स ७२७) ।

संवय नक [सं + वट्] १ बोलना,  
कहना । २ प्रमाणित करना, सत्य साबित  
करना । संवयइ, संवएज्जा (कुप्र १८७;  
सूय १, १४, २०) । वड्. संवयंत (वर्मंत  
८८३) ।

संवय वि [संवृत] आवृत्त, आच्छादित  
(कुप्र ३६) ।

संवर सक [सं + वृ] १ निरोध करना,  
रोकना । २ कर्म को रोकना । ३ बंध करना ।  
४ डकना । ५ गोपन करना । संवरइ,  
संवरसि. संवरेमि (भग; भवि; सण; हास्य  
१३०, पय २३६ टी); संवरोहि (कुप्र ३११) ।  
वड्. संवरेमाण (भग) । संवृ. संवरेवि  
(नहा) ।

संवर पुं [संवर] १ कर्म-निरोध, नूतन कर्म-  
ग्रन्थ का अटकाव (भग; परह १, १; नव  
१) । २ भारतवर्ष में होनेवाले अठारहवें  
जिनदेव (पव ४६; सम १५४) । ३ चौथे  
जिनदेव के पिता का नाम (सम १५०) ।  
४ एक जैन मुनि (पउम २०, २०) । ५  
पशु-विशेष (कुप्र १०४) । ६ दैत्य-विशेष ।  
७ मत्स्य की एक जाति (हे १, १७७) ।

संवरण न [संवरण] १ निरोध, अटकाव  
(पंचा १, ४८), 'आसवदारण संवरण'  
(सु ७) । २ गोपन (गा १६६; सुपा ३०१) ।  
३ संकोचन, समेटन (गा २७०) । ४  
प्रस्थापन, परिव्रान (श्रौष ३७; विसे २६१२;  
आयक ३३३) । ५ श्राद्ध के बारह वर्तों  
का श्रंगोकार (सम्मत् १५२) । ६ अनशन,  
अहार परिव्रान (उप पृ १७६) । ७  
विवाह, लग्न, शादी (पउम ४६, २३) ।  
८ वि. रोकनेवाला (पव १२३) ।

संवरिअ वि [संवृत] १ आवृत्त, आवृत्त;  
'एवमिणं संवरस्य दारं सम्मं संवरियं होइ'

(परह २, १—पत्र १०१) । २ संकोचित  
(दि ८, १२) । ३ आच्छादित (बृह ३) ।

संवलय न [संवलन] मित्रन (गडड; नाट-  
मालती ५७) ।

संवलिअ वि [संवलित] १ व्याप्त (गा ७५;  
सुर ६, ७६; न, ४३; सविन ६०) । २  
युक्त, मिलित, मिश्रित (सुर ३, ७८; वर्मवि  
१३६); 'सरसा वि दुमा दावाणलेण उज्जति  
सुक्कसंवलिया' (वजा १४) ।

संवयहार पुं [संवयहार] व्यवहार (विसे  
१८५३) ।

संवस अक [सं + वस] १ साय में  
रहना । २ रहना, वास करना । ३ संभोग  
करना । संवसइ (कस) । वड्. संवसमाण  
(ठा ५, २—३१२; ३१४; गच्छ १, ३) ।  
संवृ. संवसित्ता (गच्छ १, २) । हेक.  
संवसित्तए (ठा २, १—पत्र ५६) । क.  
संवसेयव्य (उप पृ १६) ।

संवह सक [सं + वह] १ वहन करना ।  
२ अक. सज्ज होना, तय्यार होना । वड्.  
संवहमाण (सुपा ४६४; याया १; १३—  
पत्र १८०) । संवृ. संवहिजण (सण) ।

संवहण न [संवहन] १, ढोना, वहन करना ।  
(राज) । २ वि. वहन करनेवाला (आचा  
२, ४, २, ३; दस ७, २५) ।

संवहणिय वि [संवाहनिक] देखो संवाहणिय  
(उवा) ।

संवाहिअ वि [संमृढ] जो सज्ज हुआ हो  
वह, तय्यार बना हुआ; 'सामिअ पूरिअपोआ  
अहं सच्चंवि संवाहिआ' (तिरि ५६६;  
सम्मत् १५७) ।

संवाइ वि [संवादिन्] प्रमाणित करनेवाला,  
सबूत देनेवाला (सुर १२, १७६) ।

संवाइय वि [संवादित] १ खबर दिया  
हुआ; जनाया हुआ (स २६६) । २ प्रमाणित  
(स ३१५) ।

संवाद पुं [संवाद] १ पूर्वज्ञान को सत्य  
संवाय साबित करनेवाला ज्ञान, सबूत,  
प्रमाण (वर्मंत १४८; स ३२६; उा ७२८  
टी) । २ विवाद, वाक्-कलह;

"इय जाओ संवाओ तेसि पुत्तसु कारणे गच्छो ।  
त कीरेणं भणियं रायसमीवे समागच्छ ॥"  
(सुपा ३६०) ।

संवाय सक [सं + वादय] खबर देना,  
समाचार कहना । संवाएमि, संवाएहि (स  
२६१; २६६) ।

संवायय पुं [दि] १ नकुल, न्यौला । २ श्येन  
पक्षी (दि ८, ४८) ।

संवास सक [सं + वासय] साय में रहने  
देना । हेक. संवासेउं (पंचा १०, ४८ टी) ।

संवास पुं [संवास] १ सहवास, साय में  
निवास (उव २२३; ठा ४, १—पत्र १६७;  
श्रौष ६७; हित १७; पंचा ६, १३) । २  
मैथुन के लिए द्रो के साथ निवास (ठा ४,  
१—पत्र १६३) ।

संवासिय (अप) वि [समाथासित] जिसको  
आधासन दिया गया हो वह; पति वर्णिए  
वणवइ संवासिउं (भवि) ।

संवाइ सक [सं + वाहय] १ वहन  
करना । २ तय्यारी करना । अंग-मर्दन—  
चप्पी करना । संवाहइ (भवि) । कवक.  
संवाहिजंत (सुपा २००; ३४६) ।

संवाह पुं [संवाह] १ दुर्ग-विशेष, जहाँ  
कूपक-लोग वान्य आदि को रक्षा के लिए  
ले जाकर रखते हैं (ठा २, ४—पत्र ८६;  
परह १, ४—पत्र ६८; श्रौष; कस) । २  
लग्न, विवाह (सुपा २५५) । ३ गिरिशिखरस्थ  
ग्राम ।

संवाहण न [संवाहन] १ अंग-मर्दन, चप्पी  
(परह २, ४—पत्र १३१; सुर ४, २४७;  
गा ४६४) । २ संवाहन, विनाश (गा  
४६४) । ३ पुं. एक राजा का नाम (उव) ।  
४ वि. वहन करनेवाला (आचा २, ४,  
२, १०) ।

संवाहणा वी [संवाहना] ऊपर देखो (कप्प;  
श्रौष) ।

संवाहणिय वि [संवाहनिक] भार-वहन  
करने के काम में आता वाहन (उवा) ।

संवाहय वि [संवाहक] चप्पी करनेवाला  
(चार ३६) ।

संवाहिअ वि [संवाहित] जिसका अंग-  
मर्दन—चप्पी किया गया हो वह (कप्प;

सुर ४, २४३)। २ वहन किया हुआ (भवि)।

संविक्लिण वि [संविक्लिण] अर्द्धी तरह व्याप्त (परए २—पत्र १००)।

संविक्ल सक [संवि + ईक्ष्] सम भाव से देखना, रागादि-रहित हो कर देखना।

वक्क. संविक्लमाण (उत्त १४, ३३)।

संविग्ग वि [संविग्ग] संवेग-युक्त, भव-मोह. मुक्ति का अन्विलापी, उत्तम साधु (उव; पंचा ५, ४१; सुर ८, १६६; ओषमा ४६)।

संविच्चिण्ण वि [संविच्चिण्ण] संविचरित, संविचिन्न } आसेवित (आया १, ५ टी—पत्र १००; आया १, ५—पत्र ६६)।

संविज्ज अक [सं + विद्] विद्यमान होना। संविज्जइ (सूत्र १, ३, २, १८)।

संविट्ठ सक [सं + वेष्ट्] ? वेष्टन करना, लपेटना। २ गोपण करना। संक. संविट्ठेमाण (आया १, ३—पत्र ६१)।

संविट्ठत्त वि [संविट्ठत्त] पैदा किया हुआ, उपाजित (स ५)।

संविणीय वि [संविणीय] विनय-युक्त (ओषमा १३४)।

संवित्त देवो संवीअ (सूत्र १, ३, १, १७)।

संवित्त वि [संवित्त] ? संजात, बना हुआ (सुर ६, ८६)। २ वि. अर्द्धा आचरण-वाला। ३ विलकुल गोल (सिदि १०६३)।

संविन्ति वी [संविन्ति] संवेदन, ज्ञान (विसे १६२६; धर्मसं २६६)।

संविद् सक [सं + विद्] जानना, 'जिच्चमाणो न संविदे' (उत्त ७, २२)।

संविद्ध वि [संविद्ध] ? संयुक्त (उवर १३३)। २ अग्र्यस्त। ३ दृष्ट; 'संविद्धपहे' (आचा १, ५, ३, ६)।

संविधा वी [संविधा] संविधान, रचना, वनावट (चार १)।

संविधुण सक [संवि + धू] ? दूर करना। २ परित्याग करना। ३ अवगणना, तिरस्कार करना। संक. संविधुणिय, संविधुणित्ताणं (आचा १, ८, ६, ५; सूत्र १, १६, ४; औप)।

संविभत्त वि [संविभत्त] बाँटा हुआ, 'देवयुत्तंविभत्तं नत्तं' (कुप्र १५३)।

संविभाअ } पुं [संविभाग] ? विभाग  
संविभाग } करना, बाँट (आया १, २—पत्र ८६; उवा; औप)। २ आदर, सत्कार (स ३३४)।

संविभागि वि [संविभागिन्] दूसरे को दे कर भोजन करनेवाला (उत्त ११, ६; दस ६, २, २३)।

संविभाय सक [संवि + भावय्] पर्यालोचन करना, चिन्तन करना। संक. संविभायिज्जण (राज)।

संविराय अक [संवि + राज्] शोभना। वक्क. संविरायंत (पट्टम ७, १४६)।

संविहल्ल देवो संवेद्धे। वक्क. संविहल्लंत (वे ४२)। संक. संविहल्लिज्जण (कुप्र ३१५)।

संविह्लिअ वि [संवेह्लित] चालित (उवा)।

संविह्लिअ देवो संवेह्लिअ = संवेष्टित (कुमा)। संविह्लिअ देवो संवेह्लिअ = (दे) (उवा; जं १)।

संविह पुं [संविध] गोशाले का एक उपासक (भग ८, ६—पत्र ३६६)।

संविहाण न [संविधान] ? रचना, वनावट (सुपा ५८६; धर्मवि १२७; माल १५१; १६३)। २ भेद, प्रकार (वे १०)।

संवीअ वि [संवीत] ? व्याप्त (सूत्र १, ३, १, १६)। २ परिहित, पहना हुआ; 'संवीयदिव्वसणो' (धर्मवि ६)।

संवुअ देवो संवुड (हे १, १३१; संक्ति ४; औप)।

संवुट्ट देवो संवुत्त (रंभा ४४)।

संवुड वि [संवुत्त] ? संकट, सकड़ा, अवि-वृत (ठा ३, १—पत्र १२१)। २ संवर-युक्त, सावध प्रवृत्ति से रहित (सूत्र १, १, २, २६; पंचा १४, ६; भग)। ३ निरुद्ध, निरोध-प्राप्त (सूत्र १, २, ३, १)। ४ श्रावृत। ५ संगोपित (हे १, १७७)। ६ न. कपाय और इन्द्रियों का नियन्त्रण (परह २, ३—पत्र १२३)।

संवुड्ढ वि [संवुड्ढ] बढ़ा हुआ (सूत्र २, १, २६; औप)।

संवुत्त वि [संवुत्त] संजात, बना हुआ; 'पव्वइया ते संसारंतकरा संवुत्ता' (वसु;

कुप्र ४३५; किरात १७; स्वप्न १७; धमि ८२; उत्तर १४१; महा; सण)।

संवुद देवो संवुड (प्राक ८; १२; प्राप्र)।

संवुदि वी [संवृति] संवरण (प्राक ८; १२)।

संवूढ वि [संव्यूढ] ? तय्यार बना हुआ, सज्जित; 'जंह इह नगरनरिदो संव्वलेणंपि एइ संवूढो' (सुरा ५८५; सुर ६, १५२)। २ वह कर किनारे लगा हुआ, वह कर स्थित; 'तए णं ते मार्गादियदारगा तेणं फलयसंडेणं उवु- (?वु)ज्जमाणो २ रयणदीवतेण संवु- (?वु)डा यावि होत्वा' (आया १, ६—पत्र १५७)।

संवेअ वि [संवेच] अनुभव-योग्य (विसे ३००७)।

संवेअ } पुं [संवेग] ? भय आदि के कारण  
संवेग } से होती ध्वरा—शोभता (गड्ड)। २ भव-वैराग्य, संसार से उदासीनता। ३ मुक्ति का अन्विलाप, मुमुक्षा (द्र ६३; सम १२६; भग; उव; सुर ८, १६५; सम्मत्त १६६; १६५; सुपा ५४१)।

संवेयण न [संवेदन] ? ज्ञान (धर्मसं ४४; कुप्र १४६)। २ वि. बोध-जनक। वी. णी (ठा ४, २—पत्र २१०)।

संवेयण वि [संवेजन] संवेग-जनक। वी. णी (ठा ४, २—पत्र २१०)।

संवेयण वि [संवेगन] ऊपर देवो (ठा ४, २—पत्र २१०)।

संवेह सक [सं + वेह्] चालित करना, कौपाना (से ७, २६)।

संवेह सक [सं + वेष्ट्] लपेटना। संवेह्लइ (हे ४, २२२; संक्ति ३६)।

संवेह सक [दे] सकेलना, समेटना, संकुचित करना। संवेह्लेइ (भग १६, ६—पत्र ७१२)। वक्क. संवेह्लेत; संवेह्लेमाण (उव; भग १६, ६)। संक. संवेह्लेज्जण (महा)।

संवेह्लिअ वि [दे] संवृत, संकुचित; 'संवेह्लिअ मज्जिअ' (पाप्र; दे ८, १२; भग १६, ६—पत्र ७१२; राय ४५)।

संवेह्लिअ वि [संवेह्लित] चालित (से ७, २६)।



संवेद्विअ वि [संवेद्वित] लपेटा हुआ (गा ६४६)।

संवेह पुं [संवेध] संयोग; 'अन्नप्रवरणसंवे-  
हरमाणज्जं गंधवं' (महा), 'अन्नप्रवन्नसंवे-  
हमणहरं मोहणं पक्खणं तग्गीयं सोऊणं'  
(धर्मवि ६५)।

संस अक [संस] खिसकना, गिरना।  
संसद (हे ४, १६७; पड्)।

संस सक [संस] १ कहना। २ प्रशंसा  
करना। संसइ (विसे ७३७; भवि), संसति  
(तिरि १८७)। कृ. संसणिज्ज (पउम  
११८, ११४)।

संस वि [सांश] शंश-युक्त, सावयव (धर्मसं  
७०६)।

संसइ वि [संशयिन्] संशय-कर्ता, शंका-  
शील (विसे १५५७; सुर १३, ७; सुपा  
१४७)।

संसइअ वि [संशयित] संशयवाला, संदिग्ध  
(पात्र; विसे १५५७; सम १०६; सुर १२,  
१०८)।

संसइअ न [सांसयिक] मिय्यात्व-विशेष  
(पंच ४, २; आ ६; संबोध ५२; कम्म ४,  
५१)।

संसग्ग पुं [संसर्ग] संबन्ध, संग, सोहवत  
(सुपा ३५८; प्रासू ३१; गउड)। क्री. गगी  
(गाया १; १ टी—पत्र १७१; प्रासू ३३;  
सुपा १७१),

'एएणं विच नेच्छंति

साहो न मज्जरोहि संसर्गि।

जम्हा विओगविट्ठरिय-

हिययस्स, न ओसवं अन्नं

(सुर २, २१६)।

संसज्ज अक [संस + सज्ज] संबन्ध करना,  
संसर्ग करना। संसज्जंति (सम्मत् २२०)।

संसज्जिम वि [संसक्तिमत्] बीच में निरे  
हुए जीवों से युक्त (पिड ५३८)।

संसट्ट वि [संसट्ट] १ खरएटत, विलिप्त।  
२ न, खरएटत हाथ से दी जाती भिक्षा  
आदि (ओप)। देखो संसिट्टु।

संसण न [संसण] १ कथन। २ प्रशंसा।  
३ आस्वादत; सुत्तविहीणं पुण सुयमपक्क-

फलसंसणसरिच्छं' (उप ६४८ टी; उवकु  
१६)।

संसणिज्ज देखो संस = शंस।

संसत्त वि [संसत्त] १ संसर्ग-युक्त, संबद्ध  
(गाया १, ५—पत्र १११; ओप; सं ६;  
उत्त २, १६)। २ खापद-जन्तु-विशेष  
(कप्प)।

संसत्ति क्री [संसत्ति] संसर्ग (सम्मत्  
१५६)।

संसद पुं [संशब्द] शब्द, आवाज (सुर २,  
११०)।

संसप्पग वि [संसर्पक] १ चलने-फिरने-  
वाला। २ पुं. चोंटी आदि प्राणी (आचा  
१, ८, ८, ९)।

संसप्पिअ न [दे. संसर्पित] कूद कर  
चलना (दे ८, १५)।

संसमण न [संसमन] उपशम, शान्ति (पिड  
४५६)।

संसय पुं [संशय] संदेह, शंका (हे १, ३०;  
भग; कुमा; अमि ११०; महा; भवि)।

संसया क्री [संसत्] परिपत्, सभा (उत्त  
१, ४७)।

संसर सक [संस + सु] परिभ्रमण करना।  
वक्र. संसरंत, संसरमाण (प्रवि १; वै ८८;  
संबोध ११; अचु ६७)।

संसरण न [संसरण] स्मृति, याद (श्रु ७)।

संसवण न [संसवण] श्रवण; सुनना (सुर  
१ २४२; रंभा)।

संसद सक [संस + सह] सहन करना।  
संसदह (धर्मसं ६८२)।

संसा क्री [शंसा] प्रशंसा, श्लाघा (पव ७३  
टी; भग)।

संसाअ वि [दे] १ आह्व। २ चूर्णित। ३  
पीत। ४ जट्टिन (पड्)।

संसार पुं [संसार] १ नरक आदि गति में  
परिभ्रमण, एक जन्म से जन्मान्तर में गमन  
(आचा; ठ ४, १—पत्र १६८; ४, २—  
पत्र २१६; दसनि ४, ४६; उत्त २६, १;  
उव; गउड; जी ४४)। २ जगत, विश्व (उव;  
कुमा; गउड; पउम १०३; १४१)। ३ वंत  
वि [वंत्] संसारवाला; संसार-स्थित  
जीव, प्राणी (पउम २, ६२)।

संसारि } वि [संसारिन्] नरक आदि  
संसारिण } योनि में परिभ्रमण करनेवाला  
जीव (जी २), 'संसारिणस्स जं पुण जीवस्स  
सुहं तु फरिसमादीणं' (पउम १०२, १७४)।  
संसारिय वि [संसारिक] ऊपर देखो (स  
४०२; उव)।

संसारिय वि [संसारिक] संसार से संबन्ध  
रखनेवाला (पउम १०६, ४३; उप १४२  
टी; स १७६; सिक्खा ७१; सण; काल)।

संसारिय वि [संसारित] एक स्थान से दूसरे  
स्थान में स्थापित, 'संसारियासु वलयवाहासु'  
(गाया १, ८—पत्र १३३)।

संसाहण क्री [दे] अनुगमन (दे ८, १६;  
दसनि ३८८)। क्री. णा (वव ?)।

संसाहण न [संकथन] कथन (सुपा ४१५)।

संसाहिय वि [संसाधित] सिद्ध किया हुआ  
(सुपा ३६७)।

संसि वि [संसिन्] कहनेवाला (गउड)।

संसिअ वि [संसित] १ श्लाघित (सुर १३,  
६८)। २ कथित (उप पृ १६१)।

संसिअ वि [संस्रित] आश्रित (विपा १,  
३—पत्र ३८; पएह १, ४—पत्र ७२; श्रीप  
४८; अणु १५१)।

संसिच सक [संस + सिच्] १ पुरना,  
भरना। २ बढ़ाना। ३ सिचन करना। कवक.  
संसिच्चमाण (आचा; पि ५४२)। संकृ-  
संसिचियाणं (आचा १, २, ३, ४)।

संसिज्ज अक [संस + सिध्] अच्छी तरह  
सिद्ध होना। संसिज्जंति (स ७६७)।

संसिट्टु देखो संसट्ट (भग)। कल्पिअ वि  
[कल्पिक] खरएटत हाथ अथवा भाजन  
से दी जाती भिक्षा को ही ग्रहण करने के  
नियमवाला मुनि (पएह २, १—पत्र १००)।

संसित्त वि [संसित्त] सींचा हुआ (सुर ४,  
१४; महा; हे ४, ३६५)।

संसिद्धिअ वि [सांसिद्धिक] स्वभाव-सिद्ध  
(हे १, ७०)।

संसिलेस देखो संसेस (राज)।

संसिलेसिय देखो—संसेसिय (राज)।

संसीध सक [संस + सिच्] सीना, सिलाई  
करना। संसीधज्जा (आचा २, ५, १, १)।

संसुद्ध वि [संशुद्ध] १ विशुद्ध, निर्मल (सुपा ५७३) । २ न. लगातार उत्तम दिन का उपवास (संशोध ५८) ।

संसूयग वि [संसूचक] सूचना-कर्ता (रंभा) ।

संसेइम वि [संसेक्म] संकेत से बना हुआ (निच १५) । २ उवालो हुई भाजी जिस ठंडे जल से सिंचा जाय वह पानी (ठा ३, ३—पत्र १४७; कप्प) । ३ तिल की बोवन (आचा २, १, ७, ८ । ४ पिष्टोवक, आटा की बोवन (इस ५, १, ७५) ।

संसेइम वि [संसेदिम] १ पत्तीने से उत्पन्न होनेवाला (पएह १, ४—पत्र ८५) ।

संसेय अक [सं + स्त्रिद्] बरसना; 'जावं च गुं वहवे उराला बलाहया संसेयति' (नग) ।

संसेय पुं [संसेद] पत्तीना । १ य वि [°ज] पत्तीने से उत्पन्न (सुर १, ७, १; आचा) ।

संसेय पुं [संसेक] सिंचन (ठा ३, ३) ।

संसेविय वि [संसेवित] आसेवित (सुपा २२७) ।

संसेस पुं [संसेष] सम्बन्ध, संयोग (आचा २, १३, १) ।

संसेसिय वि [संसेपिक] संक्षेपवाला (आचा २, १३, १) ।

संसोधन न [संशोधन] शुद्धि-करण (पिंड ४५६) । देखो संसोहण ।

संसोधित वि [संशोधित] अच्छी तरह शुद्ध किया हुआ (सुर १, १४, १८) ।

संसोय सक [सं + शोच्य] शोक करना । कृ. संसोयणिज्ज (सुर १४, १८१) ।

संसोहण न [संशोधन] विरेचन, जुलाब (आचा १, ६, ४, २) । देखो संसोधन ।

संसोहा बी [संशोभा] शोभा, श्री (सुपा ३७) ।

संसोहि वि [संशोभिन्] शोभनेवाला (सुपा ४८) ।

संसोहिय देखो संसोधित (राज) ।

संह देखो संघ (नाट—विक्र २५) ।

संहडण देखो संघरण (चंड) ।

संहदि बी [संहति] संहार (संक्षि ६) ।

संहय वि [संहत] मिला हुआ (पएह १, ४—पत्र ७८) ।

संहर सक [सं + हृ] १ अपहरण करना । २ विनाश करना । ३ संवरण करना, संकेलना, समेटना । ४ ले जाना । संहरइ (पव २६१; हे १, ३०; ४, २५६) । क्वकृ.

संहरिज्जमाण (गाया १, १—पत्र ३७) ।

संहर पुं [संभार] समुदाय, संघात; 'संघाओ संहरो निघरो' (पात्र) ।

संहरण न [संहरण] संहार (श्रु ८७) ।

संहार देखो संभार = सं + भारय् । कृ.

संहारणिज्ज (गाया १, १२—पत्र १७६) ।

संहार देखो संघार (हे १, २६४; पइ) ।

संहारण न [संवारण] वारण, बनाये रखना;

टिकाना; 'कायसंहारणट्ठाए' (आचा) ।

संहाव देखो संभाव = सं + भावय् । कृ.

संहावअंत (शौ) (पि २७५) ।

संहिदि देखो संहदि (प्राकृ १२) ।

संहिच्च अ [संहत्य] साथ में मिलकर, एकत्रित

होकर (गाया १, ३ टो—पत्र ६३) ।

संहिय देखो संधिअ = संहित (कप्प; नाट—

महावी २६) ।

संहिया बी [संहिता] १ चिकित्सा आदि

शास्त्र; 'चिगिच्छासंहियाओ' (स १७) । २

अस्वाहित रूप से सूच का उच्चारण;

'अस्खलियसुत्तुच्चारणत्वा इह संहिया

मुणेषच्चा' (वेइय २७२) ।

संहुदि बी [संभृति] अच्छी तरह पोषण

(संक्षि ४) ।

सक देखो सग = सक (पएह १, १—पत्र

१४) ।

सकणण देखो सकन्न (राज) ।

सकथ न [सकथ] तापसों का एक उपकरण

(निर ३, १) ।

सकथा देखो सकहा; 'त्रेइयखंमेसु जिणसकवा

संणिखित्ता चिट्ठंति' (सुज्ज १८) ।

सकर्य अ [सकृन्] एक बार; 'कि सक

(? क)वं बोलीण' (सुर १६, ४५) ।

सकन्न वि [सकर्ण] विद्वान्, जानकार (सुर

८, १४६, १२, ५४) ।

सकल देखो सयल = सकल (पएह १, ४—

पत्र ७८) ।

सकहा बी [सक्थियन्] अत्यि, हाड़ (सम ६३; सुपा ६५७; राय ८६) ।

सकाम देखो स-काम = सकाम ।

सकुंत पुं [शकुन्त] पत्नी (कुप्र ६८; अणु

१४१) ।

सकुण देखो सक = शक् । सकुणेमो (स

७६५) ।

संकेय देखो स-केय = संकेत ।

सक अक [शक्] सकना; समयं होना ।

सकइ. सकए (हे ४, २३०; प्राप्र; महा) ।

भवि. सकखं, सकवामो, सकिस्सामो (आचा;

पि ५३१) । कृ. सक, सकणिज्ज, सकिअ

(संक्षि ६; सुर १, २३०; ४, २२७; स

११४; संशोध ४०; सुर १०, ८१) ।

सक सक [सृप्] जाना, गति करना ।

सकइ (प्राकृ ६५; चात्वा १५५) ।

सक सक [ध्वक्] गति करना; जाना ।

सकइ (पि ३०२) ।

सक न [शक्त] छाल (दि ३, ३४) ।

सक वि [शक्त] समयं; शक्ति-युक्त; 'को सको

वेयणाविगमे' (विवे १०२; हे २, २) ।

सक देखो सक = शक् ।

सक पुं [शक्र] १ सौधर्म नामक प्रथम

देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५;

उवा; सुपा २६६) । २ कोई भी इन्द्र, देव-

पति (कुमा) । ३ एक विद्यावरराजा (पउम

१२, ८२) । ४ इन्द्र-विशेष (पिग) । १ गुरु

पुं [गुरु] बृहस्पति (सिरि ४४) । १ पभ

पुं [प्रभ] शक्र का एक उत्पात-पर्वत (ठा

१०—पत्र ४८२) । १ सार न [सार] एक

विद्यावर-नगर (इक) । १ वडार (शौ) न

[वतार] तीर्थ-विशेष (अभि १८३) ।

१ वयार न [वतार] चैत्य-विशेष (स

४७७; द्र ६१) ।

सक पुं [शक्य] १ बुद्ध देव (पात्र) । २

वि. बोद्ध; बुद्ध का भक्त (विसे २४१६;

आवक ८८; पव ६४; पिंड ४४५) ।

सक (अप) देखो सग = स्वक (भवि) ।

सकंदण पुं [सकन्दन] इन्द्र (सुर १, ६

दि; ४, १६०) ।

सकणो (शौ) देखो सकुण । सकणोमि (अभि ६२; पि १४०), सकणोदि (नाट—रत्ना १०२) ।

सकय देखो स-कय = संकृत ।

सकय वि [संस्कृत] ? संस्कार-युक्त (पिड १६१) । २ स्त्री. संस्कृत भाषा (कुमा; हे १, २८; २, ४); 'परमोद्विठनमोकारं सकय (१?)भासाए भणइ शुद्धमए' (चेइय ४६८) । स्त्री, °या; 'सकया पायवा चैव भणइओ होति दोरिएण वा' (अणु १३१) ।

सकर न [शर्कर] खण्ड, टुकड़ा (उव) ।

सकर° देखो सकरा । °पुढवी स्त्री [°पृथिवी] दूसरी नरक-भूमि (पउम ११८, २) । °पभा स्त्री [°प्रभा] वही अर्थ (ठा ७—पत्र ३८८; इक) ।

सकरा स्त्री [शर्करा] ? चीनी; पकी खांड (णाय १, १७—पत्र २२६; सुपा ८४; सुर १, १४) । २ उपलखण्ड, पत्थर का टुकड़ा, कंकड़ (सूत्र २, ३, ३६; अणु) । ३ बालु, रेत (महा) । °भ न [°भ] ? गोत्र-विशेष, जो गोतम गोत्र की एक शाखा है । २ पुंस्त्री. उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) । °भा स्त्री [°भा] दूसरी नरक-पृथिवी (उत्त ३६, १५७) ।

सकार पुं [सत्कार] संमान, आदर, पूजा (भग; स्वप्न ८६; भवि; हे ४, २६०) ।

सकार पुं [संस्कार] ? गुणान्तर का आवान । २ स्मृति का कारण-भूत एक गुण । ३ वेग । ४ शास्त्राम्यास से उत्पन्न होती व्युत्पत्ति । ५ गुण-विशेष, स्थिति-स्थापन । ६ व्याकरण के अनुसार शब्द-सिद्धि का प्रकार । ७ गर्भावान आदि समय की जाती धार्मिक क्रिया । ८ पाक, पकाना (हे १, २८; २, ४; प्राक् २१) ।

सकार सक [सत्कारय] सत्कार करना, सम्मान करना । सकारेइ, सकारित, सकारिमो (उवा; कप; भग) । संक. सकारित्ता (भग; कप) । क. सकारणिज्ज (णाय १, १ डी—पत्र ४; उवा) ।

सकारण न [सत्कारण] सत्कार, सम्मान (वस १०, १७) ।

सकारि वि [सत्कारिन्] सत्कार करनेवाला, सम्मानकर्ता (गठड) ।

सकारिय वि [सत्कारित] सम्मानित (सुख २, १३; महा) ।

सकारिय वि [संस्कारित] संस्कार-युक्त किया हुआ (धर्मसं ८६३) ।

सकाल देखो सकार = संस्कार (हे १, २५४) ।

सकिय देखो सक = शाय; 'अहं खु दाव कतव्वकररथीकिदसंकेदो विअ सकियसमणओ रिहं ए लभामि' (चार ५६) ।

सकिय देखो सक = शक् ।

सकिय अ वि [शक्ति] जो समर्थ हुआ हो वह (आ २८; कुप्र ३) ।

सकिय वि [स्वकीय] निज का, आत्मीय; 'सि (? स) कियमुवहि च तथा पडिलेहंतो न वेमि जया' (कुलक ७; ६) ।

सकिय देखो स-किय = संकृत ।

सकियिआ स्त्री [संस्क्रिया] संस्कार, संस्कृति (प्राक् ३३) ।

सककुण देखो सकुण । सककुणदि (शौ) (प्राक् ६४), सककुणोमि (स २४; मोह ७) ।

सककुलि स्त्री [शक्कुलि] ? कर्ण-विवर, कान का छिद्र (णाय १, ८—पत्र १३३) ।

२ तिलपापड़ी, एक तरह का खाद्य पदार्थ (पणह २, ५—पत्र १४८; वस ५, १, ७१; कस; विसे २६६) । °कण पुं [°कर्ण] एक अन्तर्द्वीप । १ उसमें रहनेवाली मनुष्य-जाति (इक) ।

सकख° देखो सक = शक् ।

सकख न [सख्य] मैत्री, दोस्ती (उत्त १४, २७) ।

सकख न [साक्ष्य] साक्षिपन, गवाही (सुपा २७६; संबोध १७) ।

सकखं अ [साक्षान्] प्रत्यक्ष, आँखों के सामने, प्रकट (हे १, २४; पि ११४) ।

सकखय देखो सकय = संकृत (जं २ टी—पत्र १०४) ।

सकखर देखो स-खर = साक्षर ।

सकखा देखो सकखं (पंचा ६, ४०; सुर ५, २२१; १२, ३६; पि ११४) ।

सकिय वि [साक्षिन्] मात्री, माता, गवाह (पणह १, २—पत्र २६; धर्मसं १२००; कप; आ १४; स्वप्न १३१) ।

सकियअ देखो सकय = सख्य, 'कादंबरी-सकियअं ग्रम्याणं पडमसोहंइ इच्छोअदि' (अभि १८८) ।

सकियज्ज न [साक्षित्व] गवाही, साक्ष (आवक २६०) ।

सकियण देखो सकिय (हे २, १७४; पड; सुर ६, ४४) ।

सग [स्यक] देखो स = स्व (भग; पणह २१—पत्र ६२८; पउम ८२, ११७; उत्त २०, २६; २७; संबोध ५०; चेइय ५६१) ।

सग देखो सत्त = सप्तन् (रयण ७२; उर ५, ३; २, २३) । °वण, °वन्न स्त्री [°पञ्चारात्] सत्तावन, पचास और सात (कम्म ६, ६०; श्रु १११; कम्म २, २०) । °वीस स्त्री [विंशति] सताईस (आ २८; रयण ७२; संबोध २६) । °सयरि स्त्री [°सप्तति] सतहत्तर (कम्म २, ६) । °सीइ स्त्री [°शीति] सतासी (कम्म २, १६) ।

सग देखो सत्तम (कम्म ४, ७६) ।

सग पुं [शक] ? एक अनाय देश, अफगानिस्तान के उत्तर का एक म्लेच्छ देश (सूत्रनि ६६; पउम ६८, ६४; इक) । २ उस देश का निवासी (काल) । ३ एक सुप्रसिद्ध राजा जिसका शक-संवत् चलता है (विचार ४६५; ५१३) । °कूल न [°कूल] एक म्लेच्छ-देश का किनारा (काल) ।

सग° स्त्री [सज्] माला; 'सगचंदणविस-सत्याइजोगथो तस्स अह य दोसंति' (आवक १८६) ।

सगड न [शकट] ? गाड़ी (उवा; आचा २, ३, १६) । २ पुं. एक सार्थवाह-पुत्र (विपा १, १—पत्र ४; १, ४—पत्र ५५) । °भदिआ स्त्री [°भद्रिका] जैनेतर ग्रन्थ-विशेष (एदि १६४; अणु ३६) । °सुह न [°मुख] पुरिमताल नगर का एक प्राचीन उद्यान (कप) । °वूह पुं [°व्यूह] कला-विशेष, गाड़ी के आकार से सैन्य की रचना (श्रीप) । देखो सअड ।

सगडविभ देखो स-गडविभ = स्वकृतमिद् ।  
सगडाल पुं [शकटाल] राजा नन्द का  
सुप्रसिद्ध मंत्री और महर्षि स्थूलभद्र का पिता  
(कुप्र ४४३) ।

सगडिया स्त्री [शकटिका] छोटी गाड़ी  
(भग; विपा १, १—पत्र ८; णाया १,  
१—पत्र ७४) ।

सगडी स्त्री [शकटी] गाड़ी (णाया १, ७—  
पत्र ११८) ।

सगण देखो स-गण = स-गण ।

सगन्न देखो सकन्न (कुप्र ४०३) ।

सगय न [दे] श्रद्धा, विश्वास (दे ८, ३) ।

सगर पुं [सगर] एक चक्रवर्ती राजा (सम  
८२; उत १७, ३५) ।

सगल्ल देखो सयल = सकल (णाया १,  
१६—पत्र २१३; भग; पंच १, १३; सुर  
१, ११६; पव २१६; सिक्खा ३७) ।

सगसग अक [सगसगाय] 'सग-सग'  
आवाज करना । वक्र. सगसगांत (पजम  
'४२, ३१) ।

सगार देखो स-गार = सागार, साकार ।

सगार देखो स-गार = स-कार ।

सगास न [सकाश] पास, निकट, समीप  
(श्रीप; सुपा ४५२; ४८८; महा) ।

सगुण देखो स-गुण = स-गुण ।

सगुणि देखो सठणि (परह १, ४—पत्र  
७८) ।

सगुत्त वि [सगोत्र] समान गोत्रवाला,  
एकगोत्रीय (कप्प) ।

सगेह न [दे] निकट, समीप (दे ८, ६) ।

सगोत्त देखो सगुत्त (कुप्र २१७) ।

सग्ग पुंन [स्वर्ग] देवों का आवास-स्थान  
(णाया १, ५—पत्र १०५; भग; सुपा  
२६३; विरगं चैवमिह सग्गं (श्रु ५८) ।  
'तरु पुं [तरु] कल्पवृक्ष (सि ११, ११) ।  
'सामि पुं [स्वामिन्] इन्द्र (उप २६४  
टी) । 'वहू स्त्री [वधू] देवांगना, देवी  
(उप ७२८ टी) ।

सग्ग पुं [सर्ग] १ मुक्ति, मोक्ष, ब्रह्म (श्रीप) ।  
२ सृष्टि, रचना (रंभा) ।

सग्ग देखो स-ग्ग = साग ।

सग्ग देखो सग = स्वक (उत २०, २६;  
राज) ।

सग्गइ देखो स-ग्गइ = सद्गति ।

सग्गह वि [दे] मुक्त, मुक्ति-प्राप्त (दे ८,  
४ टी) ।

सग्गह देखो स-ग्गह = स-ग्रह ।

सग्गीय वि [स्वर्गीय] स्वर्ग-सम्बन्धी (विसे  
१८००) ।

सग्गु देखो सिग्गु (उप १०३१ टी) ।

सग्गोकस पुं [स्वर्गोकस्] देव, देवता  
(वर्मा ६) ।

सग्घ तक [कथ्] कहना । सग्घ (पड्) ।

सग्घ वि [श्लोध्य] प्रशंसनीय (सूत्र १, ३,  
२, १६; विसे ३५७८) ।

सग्घिण देखो स-ग्घिण = स-घृण ।

सच्चक्खु } देखो स-चक्खु = स-चक्षुप् ।  
सच्चक्खुअ }

सच्चित्त देखो स-च्चित्त = स-चित्त ।

सच्चिव देखो सइव (सण) ।

सची देखो सइ = शची (वर्मवि ६६; नाट—  
शकु ६७) । 'वर पुं [वर] इन्द्र (सिरि  
४२) ।

सचेयण देखो स-चेयण = स-चेतन ।

सच्च न [सत्य] १ यथार्थ भाषण, अमृषा-  
कथन (ठा १०—पत्र ४८६; कुमा; परह  
२, ५—पत्र १४८; त्वपन २२; प्रासू १५०;  
१७७) । २ शपथ, सौगन । ३ सत्य युग ।  
४ सिद्धान्त (हे २, १३) । ५ वि. यथार्थ,  
सच्चा, वास्तविक; 'सच्चपरक्कमे' (उत  
१८, ४६; आ १२; ठा ४, १—पत्र १६६;  
कुमा) । ६ पुं. संयम, चारित्र (आचा; उत  
६, २) । ७ जिनागम, जैन सिद्धान्त (आचा) ।  
८ अहोरात्र का दसवाँ मूहूर्त (सम ५१) ।  
९ एक वणिक-पुत्र (उप ५१६) । 'उर  
न [पुर] भारत का एक प्राचीन नगर,  
जो आजकल 'साचोर' नाम से मारवाड़ में  
प्रसिद्ध है (ती ७; सिग्घ ७) । 'उरी स्त्री  
[पुरी] वही अर्थ (पडि) । 'णेमि, 'नेमि  
पुं [नेमि] भगवान् अरिष्टनेमि के पास  
दीक्षा ले मुक्ति पानेवाला एक मुनि जो राजा  
समुद्रविजय का पुत्र था (अंत; अंत १४) ।  
'पपवाय न [प्रवाद] छठवाँ पूर्व-अर्थ (सम

२६) । 'भामा स्त्री [भामा] श्रीकृष्ण की  
एक पत्नी (अंत १५) । 'वाइ वि [वादिन्]  
सत्य-वक्ता (पउम ११, ३१) । 'संध वि  
[सन्ध] सत्य प्रतिज्ञावाला, प्रतिज्ञा-निर्वाहक  
(उप पृ ३३३; सुपा २८३) । 'सिरी स्त्री  
[श्री] पांचवें आरे की अन्तिम श्राविका  
(विचार ५३४) । 'सेण पुं [सेन] ऐश्वर्य  
वर्ष में होनेवाला एक जिनदेव (सम १५४) ।  
'हामा देखो 'भामा (पि १४) । 'वाइ  
देखो 'वाइ (आचा १, ८, ६, ५; १,  
८, ७, ५) ।

सच्चइ पुं [सत्यकि] १ आगामी काल में  
वारहवाँ तीर्थंकर होनेवाला एक साध्वी-पुत्र  
(ठा ६—पत्र ४५७; सम १५४; पत्र ४६) ।  
२ विषय-लम्पट एक विद्यावर (उव; उर  
७, १ टी) । ३ श्रीकृष्ण का संबन्धी एक  
व्यक्ति (रत्निम ४६) । 'सुय पुं [सुत]  
ग्यारह स्त्री में अन्तिम स्त्री पुरुष (विचार  
४७३) ।

सच्चंकार वि [सत्यंकार] सत्य साबित करने-  
वाला, लेन-देन की सच्चाई के लिए दिया  
जाता वहाना; 'गहिअो संजमभारो सच्चंकार  
व्व सिद्धोए' (वर्मवि १४; आप ६६;  
रयण ३४) ।

सच्चव सक [ट्टश्] देखना । सच्चवइ (हे ४,  
१८१; पड्; सण) । कर्म. सच्चविज्जइ  
(कुप्र ६८) ।

सच्चव तक [सत्यापय] सत्य साबित  
करना । सच्चवइ (सुपा २६२) । कर्म.  
'अलिअंवि सच्चविज्जइ पटुत्तएणं तेण रमणियं'  
(सूक्त ८५) ।

सच्चयण न [दर्शन] श्रवलोकन, निरीक्षण  
(कुमा; सुपा २२६) ।

सच्चयय वि [दर्शक] द्रष्टा (संबोध २४) ।

सच्चविअ वि [ट्ट] देखा हुआ, विलोकित  
(गा ५३६; ८=६; सुर ४, २२५; पात्र;  
महा) ।

सच्चविअ वि [दे] अनिप्रेत, इष्ट (दे ८,  
१७; भवि) ।

सच्चा स्त्री [सत्या] १ सत्य वचन (परण  
११—पत्र ३७६) । २ श्रीकृष्ण की एक

पत्नी, सत्यनामा (हुप्र २५८) । ३ इन्द्राणी (वचस्पन् ० ऋषभ-वरित) । ० मोस वि [सृपा] मित्र-भाषा, सत्य से मिला हुआ ब्रूठ वचन; सचानोसाणि नासइ (सन ५०) । सञ्चित्त देखो स-ञ्चित्त = स-चित्त । सञ्चिह्व वि [दे. सत्य] सञ्चिह्वः यथायं (दे ८, १४) । सञ्चीसय पुं [दे. सञ्चीसक] वाद्य-विशेष (पठम १०२, १२३) । देखो सञ्चीसक । सञ्चेविअ वि [दे] रचित, निमित्त (दे ८, १८) । सञ्च्य वि [स्यञ्च्य] प्रति निर्मल (सुपा ३०) । सञ्च्यंद वि [स्यञ्च्यन्द] ? स्वाधीन, स्व-वय (उप ३३६ टी; सुर १४, ८५) । २ न. स्वेच्छानुसार (शाया १, ८—पत्र १५२; औप; अग्नि ४६; प्रागू १७) । ० गामि वि [० गामिन्] इच्छानुसार गमन करनेवाला, स्वैरी । ब्री. ०णी (सुपा २३५) । ० चारि, ० चारि वि [० चारिन्] स्वच्छन्दो, इच्छानुसार विहरण करनेवाला, स्वैरी । ब्री. ०णी (सं ३६; आ १६; गच्छ १, १०) । सञ्च्यर सक [ह्य] देवना (संवि ३६) । सञ्च्यह वि [दे. सञ्च्याय] सदृश, समान, तुल्य (दे ८, ६; गा ५; ४५; ३०८; ५२३; ५८०; ६८१; ७२१; सुर ३, २४६; धर्मवि ५७) । सञ्च्याय वि [सञ्च्याय] ? समान छाया-वाला, तुल्य (गउड; कुप्र २३) । २ अञ्च्यो कान्तिवाला (कुमा) । ३ सुन्दर छायावाला । ४ कान्ति-युक्त । ५ छाया-युक्त (हे १, २४६) । सञ्च्यह वि [सञ्च्याय] जिसकी छाही सुन्दर हो वह । २ छाही वाला । ३ समान छाया-वाला, तुल्य, सदृश (हे १, २४६) । सञ्च्यता ब्री [सञ्च्यत्रा] वनस्पति-विशेष (सूत्र २, ३, १६) । सञ्जण देखो स-जण = स्व-जन । सञ्जिय देखो सञ्जीव (सुर १२, २१०) । सञ्जुत्त देखो संजुत्त (पिग) । सञ्जोइ देखो स-जोइ = स-ज्योतिष् । सञ्जोगि वि [सञ्जोगिन्] ? मन आदि का व्यापारवाला । २ पुंन. तेरहवाँ गुण-स्थानक (पि ४११; सम २६; क्रम २, २; २०) ।

सञ्जोगिय देखो स-जोगिय = स-योनिक । सञ्ज ग्रक [सञ्ज] ? आसक्ति करना । २ सक. आलिंगन करना । सञ्जइ (उत्त २५, २०), सञ्जह (शाया १, ८—पत्र १४८) । वहु. सञ्जमाण (सूत्र १, ७, २७; दसतू २, १०; उत्त १४; ६; उवर १२) । कृ. सञ्जियव्य (परह २, ५—पत्र १४६) । सञ्ज ग्रक [सञ्ज] ? तय्यार होना । २ सक. तय्यार करना, सजाना । सज्जेइ, सज्जेति (कुमा; शाया १, ८—पत्र १३२) । कर्म. सञ्जीअति (कम्पू) । कवक. सञ्जिजंत (कम्पू) । संह. सञ्जिऊण, सञ्जेउं (स ६४; महा) । कृ. सञ्जियव्य, सञ्जेयव्य (सत्त ४०; स ७०) । प्रयो., संह. सञ्जावेऊण (महा) । सञ्ज पुं [सञ्ज] वृक्ष-विशेष (शाया १, १—पत्र २४; विस २६८२; स १११; कुमा) । सञ्ज पुं [पड्ज] स्वर-विशेष (कुमा) । सञ्ज वि [सञ्ज] तय्यार, प्रयुण (शाया १, ८—पत्र १४६; सुपा १२२; १६७; हेका ४६; पिग) । सञ्ज } ग्र [सञ्ज] तुरन्त, जल्दी, शीघ्र; सञ्ज } 'सञ्जवायणुं से कम्मणजोणं पडंजामि' (स १०८; सुव ८, १३; गा ५६७ अ; कत्त) । सञ्जभय पुं [सञ्जभय] एक प्रसिद्ध जैन महर्षि (साव १२) । सञ्जण देखो स-जण = सञ्जन । सञ्जा देखो सेज्जा (राज) । सञ्जिअ वि [सञ्जित] सजाया हुआ, तय्यार किया हुआ (औप; कुमा; महा) । सञ्जिअ वि [सञ्जित] बनाया हुआ (दे १, १३८) । सञ्जिअ पुं [दे] ? नापित, नाई । २ रजक, वीची । ३ वि. पुरस्कृत, आगे किया हुआ । ४ वीचं, लम्बा (दे ८, ४७) । सञ्जिआ ब्री [सञ्जिका] क्षार-विशेष, साजो खार; 'वर्त्यं सञ्जियात्तारेण अणुलिपति' (शाया १, ५—पत्र १०६) । सञ्जीअ } देखो स-ज्जीअ = स-जीव । सञ्जीव }

सञ्जीह्व ग्रक [सञ्जी + भू] सञ्ज होना, तय्यार होना । सञ्जीह्वेइ (था १४) । सञ्जो देखो सञ्ज = सञ्ज (सुपा ३६७) । सञ्जोक्क वि [दे] प्रत्यग्र, व्रतन, ताजा (दे ८, ३) । सञ्ज वि [साध्य] ? साधनीय, निद्र करने योग्य । २ वश में करने योग्य; 'वतिओ हू इमो सतू ताव य सञ्जो न पुरिसगारुत्त' (सुर ८, २६; सा २४) । ३ तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध अनुमेय पदार्थ, जैसे धूम से ज्ञातव्य वहि (पंचा १४, ३५) । ४ पुं. साध्यवाला, पक्ष (विस १०७७) । ५ देवगण-विशेष । ६ योग-विशेष । ७ मन्व-विशेष (हे २, २६) । सञ्ज पुं [सह्य] ? पवंत-विशेष (स ६७६) । २ वि. सहन-योग्य (हे २, २६; १२४) । सञ्जनिथ पुं [दे] ब्रह्मचारी (राज) । सञ्जन्तिया ब्री [दे] भगिनी, वहिन (राज) । सञ्जन्तियासि पुं [स्वाध्यायान्तेयासिम्] विद्या-शिष्य (सुव २, १५) । सञ्जमाण वि [साध्यमान] जिसकी साधना की जाती हो वह (सयण ४०) । सञ्जमय सक [दे] ठीक करना, तनुवस्त करना । सञ्जमेहि, सञ्जमेमि (सुव २, १५) । सञ्जस न [साध्यस] मय उर (हे २, २६; कुमा) । सञ्ज्हाइय वि [स्वाध्यायिक] ? जिसमें पठन आदि स्वाध्याय हो सके ऐसा शास्त्रोक्त-देश, काल आदि (ठा १०—पत्र ४७५) । २ न. स्वाध्याय, शास्त्र-पठन आदि (पत्र २६८; सुदि २०७ टी) । सञ्ज्हाय पुं [स्वाध्याय] शोभन अव्ययन, शास्त्र का पठन, आचरतन आदि (औप; हे २, २६; कुमा; नव २२) । सञ्ज्हाय वि [साह्यराज] सहाचल के राजा से सम्बन्ध रखनेवाला, सहायि के राजा का (पठम ५५, १७) । सञ्जिल्लग पुं [दे] भ्राता, भाई (उप २७५; ३७७; पिड ३२४) । सञ्जिल्लगा ब्री [दे] भगिनी, वहिन (पिड ३१६; उप २०७) । सञ्जिल्लग देखो सञ्जिल्लग (राज) ।

सट्ट पुंस्त्री [दे] १ सट्टा विनिमय, बदला (सुपा २३३)। स्त्री. ०ट्टी (सुपा २७५; वज्जा १४२)। २ वि. सटा हुंआ; ०पीणएणय-सट्टइं'थणएवट्टइं' (अवि)।

सट्ट पुं [सट्टक] १ एक तरह का नाटक सट्टय (कप्पु; रंभा १०), 'रंभं तं परिरोदि अट्टमतिथं एयमि सट्टे वरे' (रंभा १०)। २ लाय-विशेष (रंभा ३३)।

सट्ट न [शाठ्य] शठता, धूर्तता (उप ७२८ टी; गुमा २४)।

सट्ट (शौ) देखो छट्ट (चार ७; प्रवो ७३; पि ४४६)।

सट्टि स्त्री [पट्टि] १ संख्या-विशेष, साठ, ६०। २ साठ संख्यावाला (सम ७४; कप्पु; महा; पि ४४८)। ०तंत, ०थंत न [०तन्त्र] शास्त्र-विशेष, सांख्य-शास्त्र (भग; णाया १, ५—पत्र १०५; श्रौप; अणु ३६)। ०म वि [०तम] साठवां (पउम ६०, १०)।

सट्टिक वि [पट्टिक] १ साठ वर्ष की सट्टिय वयवाला (तंडु १७; राज)। २ सट्टीअ पुं. एक प्रकार का चावल (राज; आ १८)।

सड अक [सड्] १ सड़ना। २ विपाद करना, खिन्न होना। ३ सक. गति करना, जाना। सडइ (हे ४, २१६; प्राप्र; पड्; धात्वा १५५)।

सड अक [शट्] १ सड़ना। २ खेद करना। ३ रोगी होना। ४ सक. जाना। सडइ (विपा १, १—पत्र १६)।

सडंग न [पडङ्ग] शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष। ०वि वि [०विट्] छः अंगों का जानकार (भग; श्रौप; पि ३४१)।

सडण न [शटन] विशरण, सड़ना (परह १, १—पत्र २३; णाया १, १—पत्र ४८)।

सडा देखो सढा (से १, ५०; पि २०७)।

सडिअ वि [सत्त, शटित] सड़ा हुंआ, विशीणं (विपा १, ७—पत्र ७३; आ-१४; कुमा)।

सडिअगिअ वि [दे] १ बवित्त, बढ़ाया हुंआ। २ प्रेरित (पड्)।

सड्ड सक [शट्] १ विनाश करना। २ कृश करना। सड्डइ (धात्वा १५५)।

सड्ड पुंस्त्री [श्राद्ध] १ श्रावक, जैन गृहस्थ (श्रौप ६३; महा)। स्त्री. ०डुढी (सुपा ६५४)। २ वि. श्रद्धेय वचनवाला, जिसका वचन श्रद्धेय हो वह (ठा ३, ३—पत्र १३६)। देखो सड्ड = श्राद्ध।

सड्ड देखो स-ड्ड = साधं।

सड्डइ पुं [श्राद्धकिन्] वानप्रस्थ तापस की एक जाति (श्रौप)।

सड्डहा स्त्री [श्रद्धा] १ स्पृहा, अभिलाष, वांछा (विपा १, १—पत्र २)। २ धर्म आदि में विश्वास, प्रतीति। ३ आदर, सम्मान। ४ शुद्धि। ५ चित्त की प्रवृत्ता (हे १, ४१; पड्)। देखो सड्डा।

सड्डि वि [श्रद्धिन्] १ श्रद्धालु, श्रद्धावान् (ठा ६—पत्र ३५२; उत ५, ३१; पिडभा ३३)। २ पुं. श्रावक, जैन गृहस्थ (कप्पु)।

सड्डिअ वि [श्राद्धिक] देखो सड्ड = श्राद्ध (पि ३३३; राज)।

सड्डी देखो सड्ड = श्राद्ध।

सड वि [शठ] १ धूर्त, मायावी, कपटी (कुमा; उप २६४ टी; श्रौवभा ५८; भग; कम्म १, ५८)। २ कुटिल, वक्र (पिड ६३३)। ३ पुं. धत्तूरा। ४ मध्यस्थ पुरुष (हे १, १६६; संकि ८)।

सड पुं [दे] १ पाल, जहाज का वादवान, गुजराती में 'सड' (सिरी ३८७)। २ केश, बाल (दे ८, ४६)। ३ स्तम्भ, गुच्छा (दे ८, ४६; पात्र)। ४ वि. विपम (दे ८, ४६)।

सडय न [दे] कुसुम, फूल (दे ८, ३)।

सडा स्त्री [सटा] १ सिंह आदि की केसरा। २ जटा। ३ व्रती का केश-समूह। ४ शिखा (हे १, १६६)।

सडाल पुं [सटाल] सटावाला, सिंह (कुमा)।

सडि पुं [दे. सटिन्] सिंह (दे ८, १)।

सडिल वि [शिथिल] ढीला (हे १, ८६; कुमा)।

सण पुं [शण] १ धान्य-विशेष (आ १८; पव १५४; परह २, ५—पत्र १४८)। २ तृण-विशेष, पाट, जिसके तंतु रस्ती आदि

वनाने के काम में लाए जाते हैं (णाया १, १—पत्र २४; परण १—पत्र ३२; कप्पु)। ०धंघण न [०वन्धन] सन का पुष्प-वृन्त (श्रौप; णाया १, १ टी—पत्र ६)। ०वाडिआ स्त्री [०वाटिका] सन का वगीचा (गा ६)।

सण पुं [स्वन] शब्द, आवाज (स ३७२)।

सणकुमार पुं [सनत्कुमार] १ एक चक्रवर्ती राजा (सम १५२)। २ तीसरा देवलोक (अनु; श्रौप)। ३ तीसरे देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५)। ०वडिसय पुं [०वतंसक] एक देव-विमान (सम १३)।

सणप्पय } देखो स-णप्पय = स-नखपद।  
सणप्फद् }  
सणप्फय }

सणा अ [सना] सदा, हमेशा। ०तण, ०यण वि [०तन] सदा रहनेवाला, नित्य, शाश्वत (सुत्र २, ६, ४७); 'सिद्धाण सणायणओ परिणामिओ दव्वओवि गुणो' (संघोष २)।

सणाण न [स्नान] नहाना, नहान, अवगाहन (उवा)।

सणाह देखो स-णाह = स-नाथ।

सणाहि पुं [सनाभि] १ स्वजन, जाति; 'बंधु समणो सणाही य' (पात्र)। २ समान, सदृश (रंभा)।

सणि पुं [शनि] १ ग्रह-विशेष, शनैश्वर (पउम १७ ८१)। २ शनिवार (सुपा ५३२)।

सणिअ पुं [दे] १ साक्षी, गवाह। २ ग्राम्य, ग्रामीण (दे ८, ४७)।

सणिअं अ [शनैस्] धीरे, हौले (णाया १, १६—पत्र २२६; गा १०३; हे २, १६८ गडड; कुमा)।

सणिचर पुं [शनैश्वर] ग्रह-विशेष, शनि-ग्रह (पि ८४)। ०संवच्छर पुं [०संवत्सर] वर्ष-विशेष (ठा ५, ३—पत्र ३४४)।

सणिचरि } पुं [शनैश्वरिन्] युगलिक  
सणिचारि } मनुष्यों की एक जाति (इक; भग ६, ७—पत्र २७६)।

सणिचर } देखो सणिचर (ठा २, ३—  
सणिच्छर } पत्र ७७; हे १, १४६; श्रौप; कुमा; सुज १०, २०; २०)।

सणिद्ध देखो सिणिद्ध (हे २, १०६; कुमा) ।  
 सणिप्पवाय पुं [शनैःप्रपात] जीवों से भरो  
 हुई पौद्गलिक वस्तु-विशेष (ठा २, ४—पत्र  
 ८६) ।  
 सणेह पुं [स्नेह] १ प्रेम, प्रीति (अग्नि २७;  
 कुमा) । २ घृत, तैल आदि लिग्व रस । ३  
 चिकनाई, चिकनाहट (प्राप्र; हे २, १०२) ।  
 सण्ण देखो सन्न (से १३, ७२) ।  
 सण्णज्ज न [सान्णयाय्य] मन्त्र आदि से  
 संस्कारा जाता घृत आदि (प्राक् १६) ।  
 सण्णत्तिअ वि [दे] परितापित (दे ८, २८) ।  
 सण्णविअ वि [दे] १ चिन्तित । २ न.  
 सान्निध्य, मदद के लिए समीप-गमन (दे ८,  
 ५०) ।  
 सणिणअ वि [दे] आद्रं, गोला (दे ८, ५) ।  
 सणिणर देखो सन्निर (राज) ।  
 सण्णुमिअ वि [दे] १ संनिहित । २ मापित,  
 नापा हुआ । ३ अनुनीत, अनुनय-युक्त (दे ८,  
 ४८) ।  
 सण्णुमिअ देखो सन्नुमिअ (दे ८, ४८ टी) ।  
 सण्णेज्ज पुं [दे] यज्ञ-देवता (दे ८, ६) ।  
 सण्ह वि [श्रद्धा] १ मद्य, चिकना (कम्प;  
 औप) । २ छोटा, वारोक (विपा १, ८—  
 पत्र ८३) । ३ न. लोहा (हे २, ७५; पङ् १,  
 ४ पुं. वृक्ष-विशेष (परण १—पत्र ३१) ।  
 ४ पुं. वृक्ष-विशेष (परण १—पत्र ३१) ।  
 ५ ऋणी व्री [ऋणी] पीसने की शिला  
 (नग १६, ३—पत्र ७६६) । ६ मच्छ पुं  
 [मत्स्य] मछली की एक जाति (विपा १,  
 ८—पत्र ८३; परण १—पत्र ४७) ।  
 ७ सण्हिआ व्री [श्रद्धिगका] आठ जञ्च-  
 लक्षण-श्लक्षिका का एक नाप (इक) ।  
 सण्ह वि [सूक्ष्म] १ छोटा, वारोक (कुमा) ।  
 २ न. कैवल्य, कपट । ३ ध्व्यात्म । ४  
 अलंकार-विशेष (हे २, ७५) । देखो सुहम,  
 सुहुम ।  
 सण्हिई व्री [दे] दूती (दे ८, ६) ।  
 सत्त देखो सय = शत (गा ३) । १ क्तु पुं  
 [क्तु] इन्द्र (कम्प) । २ ग्वी व्री [ग्वी]  
 अन्न-विशेष (परह १, १—पत्र ८; वसु) ।  
 ३ द्दु व्री [द्र] एक महानदी (ठा ५,  
 ३—पत्र ३५१) । ४ भिसया व्री [भियज्]

नक्षत्र-विशेष (सम २६) । ५ रिसभ पुं  
 [श्रुपभ] अहोरात्र का इकीसवां मुहूर्त (सम  
 २१) । ६ वच्छ पुं [वत्स] पक्षि-विशेष  
 (परण १—पत्र ५२) । ७ वाइया व्री  
 [पादिका] शीन्द्रिय जन्तु की एक जाति  
 (परण १—पत्र ४५) ।

सत्त देखो सत्त = सप्तन् (पिग) । १ रि वि  
 [दशन्] सतरह, १७; जं चाणंतगुणं वि  
 हु वरिणज्जद सतरनेअदसनेअं (सिरि  
 १२८८; कम्म २, १३; १६) । २ सय न  
 [दशशत] एक सौ सतरह (कम्म २, १३) ।  
 सत्तं देखो स-त्तं = स्व-तन् ।

सत्त देखो सयय = सतत (राज) ।  
 सतय देखो सयय = शतक (सम १५४) ।  
 सतर न [सतर] दधि, दही (श्रौप ४८) ।  
 सत्ति देखो सइ = स्मृति (ठा ४, १—पत्र  
 १८७; श्रौप) ।

सती देखो सई = सती (कुप्र ६०) ।  
 सतीणा देखो सईणा (ठा ५, ३—पत्र  
 ३४३) ।  
 सतेरा व्री [शतेरा] विदिग् वचक पर रहने  
 वाली एक विद्युत्कुनारी देवी (ठा ४, १—  
 पत्र १६८, इक) ।

सत्त वि [शक्त] समर्थ (हे २, २; पङ् १) ।  
 सत्त वि [शप्त] शाप-ग्रस्त, जिसपर आक्रोश  
 किया गया हो वह (पउम ३५, ६०; पव  
 १०६ टी; प्रति ८६) ।

सत्त देखो सच्च = सत्य (अग्नि १८६; पिग) ।  
 सत्त वि [सक्त] आसक्त, गूढ, लोलुप (सूय  
 १, १; १; ६; सुर ८, १३६; महा) ।

सत्त पुंन [सत्र] १ सदाव्रत, जहाँ हमेशा  
 अन्न आदि का दान दिया जाता हो वह स्थान  
 (कुप्र १७२) । २ यज्ञ (अग्नि ८) । ३ साला  
 व्री [शाला] सदाव्रत-स्थान, दान-क्षेत्र  
 (सण) । ४ गार न [गार] वही अर्थ  
 (वर्मसं २६) ।

सत्त वि [दे] गत, गया हुआ (पङ् १) ।  
 सत्त पुंन [सत्त्व] १ प्राणी, जीव, चेतन  
 (आचा; सुर २, १३६; सुपा १०३; वर्मसं  
 ११८६) । २ अहोरात्र का दूसरा मुहूर्त (सम  
 ५१) । ३ न. ब्रह्म, पराक्रम । ४ मानसिक

उत्साह (पिड ६३३; अणु; प्रासु ७१) । ५  
 विद्यमानता (वर्मसं १०५) । ६ लगातार  
 सात दिनों का उपवास (संश्रव ५८) ।

सत्त वि [सप्तन्] सात संख्यावाला, सात  
 (विपा १, १—पत्र २; कम्प; कुमा; जी ३३;  
 ४१) । २ खिच्ची, खिच्ची व्री [क्षेत्री]  
 जिन-चैत्य, जिन-विन्ध, जैन आगम, साधु,  
 साध्वी, थावक और थाविका ये सात धन-

व्यय-स्थान (ती ८; श्रु १२६; राज) । ३ ग न  
 [क] सात का समुदाय (दं ३५; कम्म २,  
 २६; २७; ६, १३) । ४ चत्ताल वि  
 [चत्वारिंश] सैंतालीसवां, ४७ वां (पउम  
 ४७, ५८) । ५ चत्तालीस व्री [चत्वारिं-  
 शत्] सैंतालीस, ४७ (सम ६७) । ६ च्छय  
 पुं [च्छय] वृक्ष-विशेष, सतवन का पेंड,  
 सतौना (प्राक् से १, २३; राया १, १६—  
 पत्र २११; सण) । ७ व्हि व्री [पट्टि] १

संख्या-विशेष, सइसठ, ६७ । २ सइसठ संख्या  
 वाला (सम १०६; कम्म १, २३; ३२; २,  
 ६) । ३ व्हिआ अ [पट्टिआ] सइसठ प्रकार  
 का (सुज १२—पत्र २२०) । ४ णउइ देखो  
 णउइ (राज) । ५ तीसइम वि [त्रिंशत्तम]  
 सइतीसवां, ३७ वां (पउम ३७, ७१) । ६ तंतु  
 पुं [तन्तु] यज्ञ (पाय) । ७ दस वि  
 [दशन्] सतरह, १७ (पउम ११७, ४७) ।

८ षण्ण देखो षण्ण (राज) । ९ भूम वि  
 [भूम] सात तलावाला प्रासाद (था १२) ।  
 १० भूमिय वि [भूमिक] वही पूर्वोक्त अर्थ  
 (महा) । ११ म वि [म] सातवां, ७ वां  
 (कम्प) । १२ भा (जी २६) । १३ मासिअ वि  
 [मासिक] सात मास का (मग) ।

१४ मासिआ व्री [मासिकी] सात मास में  
 पूर्ण होनेवाली एक साधु-प्रतिज्ञा; व्रत-विशेष  
 (सम २१) । १५ मिया, मी व्री [मिका,  
 मी] १ सातवां, ७ वां (महा; सम २६;  
 चाव ३०; कम्म ३; ६; प्रासु १२१) । २

सातवां विभक्ति (वेदय ६८२; राज) । ३  
 देखो ग (कम्म ६, ६६ टी) । ४ रि वि [रि]  
 सत्तरवां, ७० वां (पउम ७०, ७२) । ५ रि वि  
 [दशन्] सतरह, १७ (कम्म २, ३) । ६ रत्त  
 पुं [रात्र] सात रातदिन का समय (महा) ।

७ रस वि [दशन्] सतरह, १७ (मग) ।  
 ८ रस, रसम वि [दश] सतरहवां

(कम्म ३, १६; पउम १७, १२३; पव ४६)।  
 °रह देखो °रस = °रस (पइ) °रि व्री  
 [°रि] सत्तर, ७० (सम ८१, कप्प; पइ)।  
 रिसि पुं [°रिपि] सात नक्षत्रों का मंडल-  
 विशेष (सुपा ३५४)। °वण्ण, °वन्न पुं  
 [°वण्ण] ? वृद्ध-विशेष, सतीना (औप;  
 भाग)। २ देव-विशेष (राय ८०)। °वन्नव-  
 डिंसय पुं [°वण्णवित्तंसक] जौवमं देवलोक  
 का एक विमान (राय ५६)। °विह वि  
 [°विह] सात प्रकार का (जो १६; प्रासू  
 १०४; पि ४५१)। °वीसइ, °वीसा व्री  
 [°विशति] सताईस, २७ (पि ४४५; भग)।  
 °सइय वि [°शतिक] सात सौ की संख्या-  
 वाला (एया १, १—पत्र ६४)। °सट्ट  
 वि [°पट्ट] सइसठ्ठा, ६७वां (पउम ६७,  
 ५१)। °सट्टि देखो °ट्टि (सम ७६) °सत्त-  
 मिचा व्री [°नप्तमिका] प्रतिज्ञा-विशेष,  
 नियम-विशेष (अंत)। °सिक्खावइय वि  
 [°शिक्षात्रतिक] सात शिक्षात्रतवाला (एया  
 १, १२; औप)। °हत्तर वि [°सप्तत]  
 सतहतरवां, ७७ वां (पउम ७७, ११८)।  
 °हत्तरि व्री [°सप्तति] ? संख्या-विशेष,  
 सतहतर की संख्या, ७७। २ सतहतर संख्या-  
 वाला (सम ८५; भग; था २८)। °हा अ  
 [°धा] सात प्रकार का, सप्तविध (पि  
 ४५१)। °हुत्तरि देखो °हत्तरि (नत्र ८)।  
 °ईस (अप) देखो °वीसा (पि ४४५)।  
 °णउइ व्री [°नवति] सतानवे, ९७ (सम  
 ९८)। °णउय वि [°नवत] ? सतानवेवां,  
 ९७ वां (पउम ९७; ३०)। २ जिसमें सता-  
 नवे अधिक हों वह; 'सत्ताणउयजोयणसए'  
 (भग)। °रह (अप) देखो °रह (पिग)।  
 °वण्ण, °वन्न व्रीन [°पञ्चारात्] ?  
 संख्या-विशेष, सतावन, ५७। २ सतावन  
 संख्यावाला (पडि; पिग; सम ७३; नत्र २)।  
 व्री. °ण्णा, °णा (पिग; पि २६५; ४४७)।  
 °वन्न वि [°पञ्चाश] सतावनवां, ५७वां  
 (पउम ५७, ३७)। °वीस न [°विशति]  
 ? संख्या-विशेष, सताईस। २ सताईस की  
 संख्यावाला; 'एवं सत्तावीसं भंगा ऐयव्वा'  
 (भग)। °वीसइ व्री [°विशति] वही पूर्वोक्त  
 अर्थ (कुमा)। °वीसइम वि [°विशतितम]

सताईसवां, २७ वां (पउम २७, ४२)।  
 °वीसइविह वि [°विशतिविध] सताईस  
 प्रकार का (पएण १७—पत्र ५३४)। °वीसा  
 व्री. देखो °वीस (हे १, ४; पइ)। °सीइ  
 व्री [°शीति] सतासी, ८७ (सम ६३)।  
 °सीइम वि [°शीतितम] सतासीवां,  
 ८७ वां; (पउम ८७, २१)।

सत्तंग वि [सप्ताङ्ग] ? राजा, मन्त्री, मित्र,  
 कोश-भंडार, देश, किला तथा सैन्य ये सात  
 राज्याङ्गवाला (कुमा)। २ न. हस्ति-शरीर  
 के ये सात अवयव—चार पैर, सूँढ, पुच्छ  
 और लिंग; 'सत्तंगपइड्डिय' (उवा १०१)।

सत्तण्ह देखो स-त्तण्ह = स-तुण्ह।

सत्तथ्य वि [दे] भूमिजात, कुलीन (दे ८;  
 १०)।

सत्तम देखो सत्तम = सत्-तम।

सत्तर देखो स-त्तर = स-त्तर।

सत्तर देखो सत्तर = सप्त-दशन्. दश।

सत्तल न [सप्तल] पुष्प-विशेष (गउड)।

सत्तला } व्री [सप्तला] लता-विशेष; नव-  
 सत्तली } मालिका का गाछ (पात्र; गा  
 ६१६; पउम ५३, ७६)।

सत्तली व्री [ने. सप्तला] लता-विशेष,  
 शेफालिका का गाछ (दे ८, ४)।

सत्तवीसंजोयण देखो सत्तावीसंजोअण  
 (चंड)।

सत्ता व्री [सत्ता] ? सद्भाव, अस्तित्व (एदि  
 १३६ टी)। २ आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों  
 का अस्तित्व, कर्मों का स्वल्प से अप्रचयव—  
 अवस्थान (कम्म २, १; २५)।

सत्तावरी व्री [शतावरी] क्रन्द-विशेष, 'सत्ता-  
 वरी विराली कुमारि तह थोहरी गलोईय'  
 (पव ४; संबोध ४४; था २०)।

सत्तावीसंजोअण पुं [दे] चन्द्र, चन्द्रमा (दे  
 ८, २२); 'सत्तावीसंजोअणकरपसरो जाव  
 अज्जवि न होई' (वाप्र १५)।

सत्ति व्री [दे] ? तिपाई, तीन पाया वाला  
 गोल काष्ठ-विशेष। २ घड़ा रखने का पलंग  
 की तरह ऊँचा काष्ठ-विशेष (दे ८, १)।

सत्ति व्री [शक्ति] ? अन्न-विशेष (कुमा)।  
 २ विशूल (पएह १, १—पत्र १८)। ३

सामर्थ्यं (ठा ३, १—पत्र १०६; कुमा; प्रासू  
 २६)। ४ विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)।  
 °म, °मंत वि [°मन्] शक्तिवाला (ठा  
 ६—पत्र ३५२; संबोध ८; उप १३६ टी)।

सत्ति पुं [सप्ति] अश्व, घोड़ा (पात्र)।  
 सत्तिअ वि [सात्त्विक] सत्त्व-युक्त, सत्त्व-  
 प्रधान (सूत्रानि ६२; हम्मोर १६; स ४)।

सत्तिअणा व्री [दे] ग्रामिजात्य, कुलीनता  
 (दे ८, १६)।

सत्तिवण्ण } देखो सत्त-वण्ण (सम १५२;  
 सत्तिवन्न } पि १०३; विचार १४८)।

सत्तु पुं [शत्रु] रिपु, दुश्मन, वैरी (एया  
 १, १—पत्र; कप्प; सुपा ७)। °इ वि

[°जित्] ? शत्रु को जीतनेवाला। २ पुं.  
 एक राजा का नाम (प्राकृ ६५)। °ग्व वि

[°ग्न] ? रिपु को मारनेवाला (प्राकृ ६५)।  
 २ पुं. रामचन्द्र का एक छोटा भाई (पउम  
 २५, १४)। °निहण [°निग्न] वही पूर्वोक्त

अर्थ (पउम १०, ६६)। °महण वि [°मदन्त]  
 शत्रु का मर्दन करनेवाला (सम १५२)। °सेण  
 पुं [°सेन] एक अन्तकृद् मुनि (अंत ३)।

°हण देखो °ग्व (पउम ८०, ३८)।

सत्तु } पुं [सक्त्तु] सत्तू, सत्तुआ, भुजे  
 सत्तुअ } हुए यव आदि का चूर्ण (पि  
 ३६७; निक्क १; स २५३; सुर ५, २०६;  
 सुपा ४०६; महा)।

सत्तुंज न [शत्रुञ्ज] ? एक विद्याधर-नगर  
 (इक)। २ पुं. रामचन्द्रजी का एक छोटा  
 भाई, शत्रुघ्न (पउम ३२, ४७)।

सत्तुंजय पुं [शत्रुञ्जय] ? काठियावाड़ में  
 पालीताना के पास का. एक सुप्रसिद्ध पर्वत  
 जो जैनों का सर्व-श्रेष्ठ तीर्थ है (सुर ५,  
 २०३)। २ एक राजा का नाम (राज)।

सत्तुंदम पुं [शत्रुन्दम] एक राजा का नाम  
 (पउम ३८, ४५)।

सत्तुग देखो सत्तुअ (कुप्र १२)।

सत्तुत्तारे व्री [सप्तसप्तति] सतहतर, ७७  
 (कम्म ६, ४८)।

सत्य वि [शस्व] प्रशस्त, श्लाघनीय (चैइय  
 ५७२)।  
 सत्य न [शब्द] हथियार, आयुध, प्रहरण  
 (आचा. उप; भग; प्रासू १०५)। °कोस पुं



[कोरा] शत्रु—श्रीजार रखने का बैला (गाया १, १३—पत्र १८१)। 'वञ्ज वि [वञ्ज] हविषार से मारने योग्य (गाया १, १६—पत्र १६६)। 'वाडण न [वपा-टन] शत्रु से चोरना (गाया १, १६—पत्र २०२; भग)।

सत्य वि [दे] गत, गया हुआ (दि ८, १)।

सत्य देखो सत्य = स्व-स्व।

सत्य न [स्वास्थ्य] स्वस्थता (गाया १, ६—पत्र १६६)।

सत्य पुं [सार्थ] १ व्यापारी मुसाफिरों का समूह (गाया १, १५—पत्र १६३; उत्त ३०, १७; बृह १; अणु; सुर १, २१४)। २ प्राणि-समूह (कुमा; हे १, ६७)। ३ वि. श्रन्वयं; ययार्थनामा (चेद्वय ५७२)। 'वह, 'वाह पुंश्री [वाह] सार्थ का मुखिया, संव-नायक (श्रु ५५; उवा; विपा १, २—पत्र ३१)। श्री. 'ही (उवा; विपा १, २—पत्र ३१)। 'वाहिक पुं [वाहिन] वही पूर्वोक्त अर्थ (भवि)। 'ह देखो 'वाह (वमंवि ४१; सण)। 'हिव पुं [धिप] सार्थ-नायक (सुर २, ३२; सुपा ५६४)। 'हिवइ पुं [धिपति] वही अर्थ (सुपा ५६४)।

सत्य पुंन [शास्त्र] हितोपदेशक ग्रन्थ, हित-यिसक पुस्तक, तत्त्व-ग्रंथ (विसे १३८४; कुमा), 'नाणामत्वे मुणुंतेवि' (आ ४)। 'णु वि [ज्ञ] शास्त्र का जानकार; 'सुमि-णसत्यणु' (उप ६८६ टी; उप पृ ३२७)। 'गार वि [कार] शास्त्र-प्रणेता (वमंसं १००३; सिक्खा ३१)। 'थ्य पुं [र्थ] शास्त्र-रहस्य (कुप्र ६; २०६; भवि)। 'थार देखो 'गार (स ४; वमंसं ६८२)। 'वि वि [विट्] शास्त्र-ज्ञाता (स ३१२)।

सत्यइअ वि [दे] उत्तेजित (दि ८, १३)।

सत्यर पुं [दे] निकर, समूह (दि ८, ४)।

सत्यर } पुंन [स्तर] शब्दा, विद्वाना  
सत्यरय } (दि ८, ४ टी; सुपा ५८३; पाश्र;  
पड; हान्व १३६; सुर ४, २४४)।

सत्यव देखो संथव = संस्तव (प्राक ३३; पि ७६)।

सत्याम देखो सत्याम = सत्यामन्।

सथाव देखो संथव = संस्तव (प्राक ३३)।

सत्यि अ. स्त्री [स्वस्ति] १ आशोवादि; 'सत्यि करेइ कविलो' (पउम ३५, ६२)। २ क्षेम, कल्याण, मंगल। ३ पुण्य आदि का स्वीकार (हे २, ४५; संति २१)। 'मई स्त्री [मती] १ एक विप्र-स्त्री, क्षीरकदम्बक उपाध्याय की स्त्री (पउम ११, ६)। २ एक नगरी (उप ६०२)। ३ संनिवेश-विशेष (स १०३)। देखो सोत्थि।

सत्यिअ पुं [स्तस्तिक] १ मातृलिक विन्यास-विशेष, मंगल के लिए की जाती एक प्रकार की चावल आदि की रचना-विशेष (आ २७; सुपा ५२)। २ स्वस्तिक के आकार का आसन-बन्ध (बृह ३)। ३ एक देव-विमान (देवेन्द्र १४०)। 'पुर न [पुर] एक नगर का नाम (आ २७)। देखो सोत्थिअ।

सत्यिअ वि [सार्थिक] १ सार्थ-सम्बन्धी, सार्थ का मनुष्य आदि (कुप्र ६२; स १२६; सुर ६, १६६; सुपा ६५१; वमंवि १२४)। २ पुं. सार्थ का मुखिया (बृह १)।

सत्यिअ न [सक्थिक] ऊरु जाँव (स २६२)।

सत्यिआ स्त्री [शस्त्रिका] छुरी (प्राप्र)।

सत्यिग देखो सत्यिअ = स्वस्तिक (पंचा ८, २३)।

सत्यिइ देखो सत्यिअ = सार्थिक (सुर १०, २०८)।

सत्यिइय देखो सत्य = सार्थ (महा; भवि)।

सत्यु वि [शास्त्र] शास्त्र-कर्ता, सोख देने-वाला (आचा; सूत्र २, ५, ४; १, १३, २)।

सत्युअ देखो संथुअ (प्राक ३३; पि ७६)।

सदा देखो सथा = सदा (राज)।

सदावरी देखो सथावरी = सदावरी (उत्त ३६, १३६)।

सदिस (शौ) देखो सरिस = सदय (नाट—मृच्छ ११३)।

सद अक [शब्दय] १ आवाज करना। २ सक-आह्वान करना, बुलाना। सदइ (पिग)।

सद पुंन [शब्द] १ व्यक्ति, आवाज (हे १, २६०; २, ७६; कुमा; सम १५); 'सदाणि विष्वव्वाणि' (सूत्र १, ४, १, ६), 'सदाई' (प्राचा २, ४, २, ४)। २ पुं. नय-विशेष

(ठा ७—पत्र ३६०; विसे २१८१)। ३ छन्द-विशेष (पिग)। ४ नाम, श्राव्या (महा)। ५ प्रसिद्धि (श्रीप; गाया १, १ टी—पत्र ३)। 'वेहि वि [वेधिन्] शब्द के अनुसार निशाना मारनेवाला (गाया १, १८—पत्र २३६; गडड)। 'वाइ पुं [पातिन्] एक वृत्त वैताञ्च पर्वत (ठा २, ३—पत्र ६६; ८०; ४, २—पत्र २२३; इक)।

सदल न [शाट्टल] हरित, हरा वास (पाश्र; गाया १, १—पत्र २४; गडड)।

सदलिय वि [शाट्टलित] हरा वासवाला प्रदेश (गडड)।

सदह सक [अद् + धा] अट्टा करना, विवास करना, प्रतीति करना। सदहइ, सदहामि (हे ४, ६; भग; उवा)। भवि. सदहिसइ (पि ५३०)। वक. सदहंत, सदहमाण सदहाण (नव ३६; हे ४, ६; श्रु २३)। संक. सदहित्ता (उत्त २६, १)। क-सदहियञ्च (उव; सं ८६; कुप्र १४६)।

सदहण देखो सदहाण (हे ४, २३८; कुमा)।

सदहणया } स्त्री [अद्धान] अट्टा, विवास,  
सदहणा } प्रतीति (ठा ६—पत्र ३५५;  
पंचना)।

सदहा देखो सड्हा = अट्टा (सट्टि १२७)।

सदहाण न [अद्धान] अट्टा, विवास (थावक ६२; पव ११६; हे ४, २३८)।

सदहाण देखो सदह।

सदहिय वि [अद्वित] जिस पर अट्टा की गई हो वह, विश्वस्त (ठा ६—पत्र ३५५; पि ३३३)।

सदाइद (शौ) वि [शब्दायित] आहूत, बुलाया हुआ (नाट—मृच्छ २८६)।

सदाण देखो संदाण। सदाणइ (पड्)।

सदाल वि [शब्दयत्] शब्दवाला (हे २, १५६; पउम २०, १०; प्राप्र; सुर ३, ६६; पाश्र; श्रीप)।

सदाल न [दे] नूपुर (दि ८, १०; पड्)।

'पुत्त पुं [पुत्र] एक जैन उपासक (उवा)।

सदाच सक [शब्दय, शब्दायय] आह्वान करना, बुलाना। सदावेइ, सदाविति, सदावैति (श्रीप; कप; भग)। सदावेहि

(स्वप्न ६२) । कमं. सहावीअंति (अभि १२८) । संक्र. सहावित्ता, सहावेत्ता (पि ५८२; महा) ।

सहाय्य वि [शब्दित, सव्दायित] ग्राहृत, बुलाया हुआ (कम्प; महा; सुर ८, १३३) ।

सहाय्य वि [शब्दित] १ प्रसिद्ध (श्रौफ; णाया १, १ टी—पत्र ३) । २ ग्राहृत (सुपा ४१३; महा) । ३ वाचित, जिसको बात कही गई हो वह (कुमा ३, ३४) ।

सहाय्य वि [शाब्दिक] शब्द-शास्त्र का ज्ञाता (अणु २३४) ।

सहदृढ पुं [सार्द्ध] १ श्वापद पशु की एक जाति, बाघ (पात्र; परह १, १—पत्र ७; दे १, २४; अभि ५५) । २ छन्द-विशेष (पिग) । ३ विक्रीडित न [विक्रीडित] उन्नीस अक्षरों के पादवाला एक छन्द (पिग) । ४ सट्ट पुं [साट्ट] छन्द-विशेष (पिग) । सहदृ देखो स-दृ = सार्ध ।

सहदृ न [श्राद्ध] १ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिण्ड-दानादि (अन्तु १७; पुष्क १६७) । २ वि. श्रद्धावाला, श्रद्धालु (उप ८६८) । देखो सहदृ = श्राद्ध (उप १६६) । ३ पक्ख पुं [पक्ष] आश्विन मास का कृष्ण पक्ष (दे ६, १२७) ।

सहदृ देखो सज्ज = साध्य (नाट—चैत ३५) ।

सहदृ पुं [श्राद्ध] व्यक्ति-वाचक नाम (महा) । सहदृरा स्त्री [सग्वरा] एककीस अक्षरों के चरणवाला एक छन्द (पिग) ।

सहदृल पुं [सहदृल] एक प्रकार का हथियार, कुन्त, बछाँ (परह १, १—पत्र १८) । देखो सव्वल ।

सहदृस देखो सज्जस (प्राक् २१; प्राप्र) ।

सहदृ देखो सहदृ (हे २, ४१; णाया १, १—पत्र ७४; प्रासू ४६; पात्र) । १ ल वि [वन्] श्रद्धावाला (चंड; आवक १७५) । २ ल वि [ल] वही अर्थ (संवाच ८) । ३ लो. लुगा (गा ४१५) ।

सहाय्य वि [शब्दिक] श्रद्धावाला (परह १, ३—पत्र ४४; वनु; श्रौचमा १६ टी) ।

सहाय्य अ [सार्धम्] सहित, साथ (आचा; उवा; उत १६३) ।

सहद्वेय वि [श्रद्धेय] श्रद्धास्पद (विते ४८२) । सहद्वेय वि [सधर्मन्] समान धर्मवाला (स ७१२) ।

सधम्मिअ देखो स-धम्मिअ = सध-धम्मिक । सधम्मिणी स्त्री [सधर्मिणी] पत्नी (दे २, १०६; सण) ।

सधवा देखो स-धवा = स-धवा ।

सनय देखो स-नय = स-नय ।

सन्न वि [सन्न] १ क्लान्त (पात्र) । २ अवसन्न, मग्न (सूत्र १, २, १, १०) । ३ खिन्न (परह १, ३—पत्र ५५) ।

सन्नाण देखो स-न्नाण = सज्जान ।

सन्नाम सक [आ + ट] आदर करना, संमान करना । सन्नामइ, सन्नामेइ (पडू; हे ४, ८३) ।

सन्नामिअ वि [आहत] संमानित (कुमा) ।

सन्निअत्थ वि [दे] परिहित, पहना हुआ (सुपा ३६) ।

सन्निउ (अप) देखो सणिअं (भवि) ।

सन्निर न [दे] पत्र-शाक, भाजी (दस ५, १, ७०) ।

सन्नुम सक [छादय] आच्छादन करना, ढाँकना । सन्नुमइ (हे ४, २१) ।

सन्नुमिअ वि [छादित] ढका हुआ (कुमा) ।

सन्ह देखो सण्ह = श्लेष (कम्प) ।

सप देखो सव = शप् । सपइ (विते २२२७) ।

सपक्ख देखो स-पक्ख = स-पक्ष ।

सपक्ख देखो स-पक्ख = स्व-पक्ष ।

सपक्खिअ अ [सपक्षम्] अभिमुख, सामने (अंत १४) ।

सपक्खी स्त्री [सपक्षी] एक महौषधि (ती ५) ।

सपज्जा स्त्री [सपर्या] पूजा (अन्तु ७०) ।

सपडिदिसि अ [सप्रतिदिक्] अत्यन्त संमुख, ठीक सामने (अंत १४) ।

सपत्तिअ वि [सपत्तित] वाण से अतिव्यचित (दे १, १३५) ।

सपह देखो सवह (धर्मवि १२६) ।

सपाग देखो स-पाग = श-पाक ।

सपिसहग देखो सपिसहग (पि २३२) ।

सप्प सक [सृप्] १ जाना, गमन करना । २ आक्रमण करना । सप्पइ (घात्वा १५५); 'घोरविषा वि हु सप्पा सप्पति न वद्धवयणुव्व' (सुर २, २४३) । वक्क. सप्पंत, सप्पमाण (गडड; कम्प) । क्क. सप्पणीअ (नाट—शकु १४७) ।

सप्प पुं स्त्री [सर्प] १ सांप, भुजंगम (उवा; सुर २, १४३; जी २१, प्रासू १६, ३८; ११२) । स्त्री. °पर्पा (राज) । २ पुं. अरलेपा नक्षत्र का अधिष्ठाता देव (सुज्ज १०, १२, ठा २, ३—पत्र ७७) । ३ एक नरकस्थान (देवेन्द्र २७) । ४ छन्द-विशेष (पिग) । ५ सिर पुं [°शिरस] हस्त-विशेष, वह हाथ जिसकी उंगलियाँ और अंगूठा मिला हुआ हो और तला नीचा हो (दे ८, ७२) । ६ सुगंधा स्त्री [°सुगंधा] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३६) ।

सप्पभ देखो स-प्पभ = स्व-प्रभ, सत्-प्रभ, स-प्रभ ।

सप्पमाण देखो सप्प = सप्; सव = शप् ।

सप्परिआव } देखो स-प्परिआव = स-  
सप्परिताव } परिताप ।

सप्पि न [सर्पिस] घृत, घी (पात्र; पव ४; सुपा १३; सिरि ११८४; सण) । १ आसव, २ यासव वि [°आसव] लब्ध-विशेषवाला, जिसका वचन घी की तरह मधुर होता है (परह २, १—पत्र १००) ।

सप्पि वि [सर्पिन्] १ जानेवाला, गति करने-वाला (कम्प) । २ रोगि-विशेष, हाथ में लकड़ी के सहारे से चल सकनेवाला रोगि-विशेष (परह २, ५—पत्र १००) ।

सप्पिसहग देखो स-प्पिसहग = स-पिशा-चक ।

सप्पा देखो सप्प = सर्प ।

सप्पुरिस देखो स-प्पुरिस = सत्-पुब्ब ।

सप्फ न [शप्फ] वाल तृण, नया घास (हे २, ५३; प्राप्र) ।

सप्फ न [दे] कुमुद, कैरव; 'चंदुजयं तु कुमुदं गह्वरं कैरवं सप्फं' (पात्र) ।

सप्फंद देखो स-प्फंद = स-स्पन्द ।

सफल देखो स-फल = स-फल ।

सफल देखो स-फल = सत्-फल ।

सफर देखो सभर = शफर (वै २०) ।

सफर पुंन [दे] मुसाफिरो: 'बडसफरपवह-  
णाए' (तिरि ३८२) ।

सफल देखो स-फल = स-फल ।

सफल सक [सफलय्] सार्थक करना ।  
वह्. सफलंत (सुपा ३७४) ।

सफलिअ वि [सफलित] सफल किया हुआ  
(सुपा ३५६; उव) ।

सव (अप) देखो सव्य = सर्व (पिग) ।

सवर पुं [शवर] १ एक अनार्य देश । २ उस  
देश में रहनेवाली एक अनार्य मनुष्य-जाति,  
किरात, भोल (पएह १, १—पत्र १४; पाग्र;  
गउड) । ३ गणिसण न [निवसन] तमाल-  
पत्र (उत्तानि ३) । देखो सवर ।

सवरी स्त्री [शवरी] १ भिल्ल जाति की स्त्री  
(आया १, १—पत्र ३७; अंत; गउड; चेइय  
४८२) । २ कायोत्सर्ग का एक दोष, हाथ से  
गुब्ब-प्रदेश को ढककर कायोत्सर्ग करना (चेइय  
४८२) ।

सवल पुं [शवल] १ परमावार्मिक देवों की  
एक जाति (सम २८) । २ वि. कंबुर,  
चितकवरा (आचा; उप २८२; गउड) । ३  
न. दूषित चरित्र । ४ वि. दूषित चरित्रवाला  
मुनि (सम ३६) ।

सवलिय वि [शवलित] कंबुरित (गउड) ।

सवलीकरण न [शवलीकरण] सवोप करना,  
चारित्र को दूषित बनाना (श्रीप ७७८) ।

सव्य (अप) देखो सव्य = सर्व (पिग) ।

सव्वल पुंन [दे] शन्न-विशेष; 'सरभसरसत्ति-  
सव्वलकरालकोतिसु' (पउम ८, ६५; धर्मवि  
५६) ।

सव्वल देखो स-व्वल = स-वल ।

सव्वम वि [सव्वम] १ समाजद, सदस्य (पाग्र;  
सम्मत्त ११६) । २ समोचित, शिष्ट; 'असव्वम-  
भासी' (वस ६, २, ८; सुर ६, २१५; स  
६५०) ।

सव्वभाव देखो स-व्वभाव = स-व-भाव ।

सव्वभाव देखो स-व्वभाव = स्व-भाव ।

सव्वभावम वि [साद्भाविक] पारमार्थिक;  
वास्तविक (दसनि १, १३५) ।

सभ न. देखो सभा; 'सभाणि' (आचा २,  
१०; २) ।

सभर पुंस्त्री [शंफर] मत्स्य, मछली (कुमा) ।  
व्री. री (हे १, २३६; प्राक १४) ।

सभर पुं [दे] गृध्र पक्षी (दे ८, ३) ।  
सभराइअ न [शफरायित] जिसने मत्स्य की  
तरह आचरण किया हो वह (कुमा) ।

सभल देखो स-भल = स-फल ।

सभा स्त्री [सभा] १ परिषद् (उवा; रयण  
८३; धर्मवि ६) । २ गाड़ी के ऊपर की  
ढकन—ढकन (आ १२) ।

सभाज सक [सभाजय्] पूजन करना ।  
हेह्. सभाजइहुं (श्री) (अग्नि १६०) ।

सभाव देखो स-भाव = स्व-भाव ।

सम अक [शन्] १ शान्त होना, उपशान्त  
होना । २ नष्ट होना । ३ आसक्त होना ।  
समइ, समंति (हे ४, १६७; कुमा); 'जइ  
समइ सकराए पित्तं ता कि पटोलाए' (तिरि  
६६६) । वह्. समेमाण (आचा १, ४,  
१, ३) ।

सम सक [शमय्] १ उपशान्त करना,  
दवाना । २ नाश करना । वह्. 'दुद्धुरिए  
समंतो' (धर्मा ३) ।

सम.पुं [श्रम] १ परिश्रम, आयास । २ खेद,  
थकावट (काप्र ८४; सम्मत्त ७७; दे १,  
१३१; उप पृ ३५; सुपा ५२५; गउड; सण;  
कुमा) । ३ जल न [जल] पसीना (पाग्र) ।

सम पुं [शाम] शान्ति, प्रशम, क्रोध आदि का  
निग्रह (कुमा) ।

सम वि [सम] १ समान, तुल्य, सरिखा  
(सम ७५; उव; कुमा; जी १२; कम्म ४,  
४०; ६२) । २ तत्स्य, मव्यस्य, उदासीन,  
राग-द्वेष से रहित (सूय १, १३, ६; ठा  
८) । ३ स. सर्व, सब (श्रु १२४) । ४ पुंन.  
एक देव-विमान (सम १३; देवेन्द्र १४०) ।  
५ सामायिक (संबोध ४५; विसे १४२१) ।  
६ आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र  
७७५) । ७ चउरंस न [चतुरस्र] संख्या-  
विशेष, चारों कोणों के समान शरीर की

आकृति-विशेष (ठा ६—पत्र ३५७; सम  
१४६; भग; कम्म १, ४०) । ८ चक्कवाल न  
[चक्कवाल] वृत्त, गोलाकार (सुज ४) ।  
९ ताल न [ताल] १ कला-विशेष (श्रीप) ।  
२ वि. समान तालवाला (ठा ७) । ३ धर्ममअ  
वि [धर्मिक] समान धर्मवाला (उप ५३०  
टी) । ४ पादपुत पुंन [पादपुत] आसन-  
विशेष, जिसमें दोनों पैर मिलाकर जमीन में  
जगाए जाते हैं वह आसन-बन्ध (ठा ५, १—  
पत्र ३००) । ५ पासि वि [दशिन] तुल्य  
दृष्टिवाला; समदर्शी (गच्छ १, २२) । ६ पभ  
पुंन [प्रभ] एक देव-विमान (सम १३) ।  
७ भाव पुं [भाव] समता (सुपा ३२०) ।  
८ या स्त्री [ता] राग-द्वेष का अभाव,  
मव्यस्यता (उत्त ४, १०; पउम १४, ४०;  
आ २७) । ९ वत्ति पुं [वर्तिन्] यमराज,  
जम (सुपा ४३३) । १० सरिस वि [सदश]  
श्रव्यन्त तुल्य, सदश, (पउम ४६, ५७) ।  
११ सहिय वि [सहित] युक्त, सहित  
(पउम १७, १०५) । १२ सुद्र पुं [शुद्र]  
एक राजा जो छठवें केशव का पिता था  
(पउम २०, १८२) ।

समइअ वि [सामयिक] समय-संबन्धी,  
समय का (भग) ।

समइअ वि [समयित] संकेतित (धर्मसं  
५०५) ।

समइअ न [समयिक] सामयिक नामक  
संयम-विशेष (कम्म ३, १८; ४, २१; २८) ।  
समइअइअ देखो समइअइअ (से १२, ७२) ।  
समइअंत वि [समतिक्रान्त] व्यतीत, गुजरा  
हुआ (सुपा २३) ।

समइअइअ सक [समति + क्रम] १ उल्लंघन  
करना । २ अक. गुजरना, पतार होना । वह्.  
समइअइअमाण (श्रीप; कण) ।

समइअइअ वि [समतिक्रान्त] १ गुजरा  
हुआ । २ उल्लंघित (उप ७२८ टी; दे ८,  
२०; स ४५) ।

समईअ वि [समतीत] १ गुजरा हुआ  
(पउम ५, १५२) । २ पुं. मृत काल (जीवसं  
१८१) ।

समईअ देखो समइअ = समयिक (कम्म ४,  
४२) ।

समञ्ज (अप) नीचे देखो (भवि) ।  
 समञ्ज [समञ्ज] साथ, सह (गा १०२;  
 १६४; २६५; उत १६, ३; महा; कुमा) ।  
 समञ्जस वि [समञ्जस] उचित, योग्य  
 (आचा; गउड; भवि) ।  
 समन्त<sup>०</sup> देखो समन्ता; 'वसिष्ठो अंगेसु समन्त-  
 पीणकणकवुरो तेयो' (गउड) ।  
 समन्त देखो सामन्त (उप पृ ३२७) ।  
 समन्त (अप) देखो समन्त = समस्त (पिग) ।  
 समन्तओ अ [समन्तवस] सर्वतः, चारों  
 तरफ (गा ६७३; सुर २, २३८) ।  
 समन्ता अ [समन्तात्] ऊपर देखो  
 समन्तेण (पात्र; भग; विपा १, २—पत्र  
 २६; से ६, ५१; सुर २, २८; १३, १६५) ।  
 समन्त वि [समाक्रान्त] १ जिसपर  
 आक्रमण किया गया हो वह (से ५, ५७) ।  
 २ अवरुद्ध, रोक हुआ (से ८, ३३) ।  
 समक्ख न [समक्ष] नजर के सामने, प्रत्यक्ष  
 (गा ३७०; सुपा १५०; महा) । देखो  
 समच्छ ।  
 समक्खाय वि [समाख्यात] उक्त,  
 समक्खिअ कथित (उप २११ टी; ६६४,  
 जी २५; श्रु १३३) ।  
 समग्गं देखो समग्गं = समकम् (पत्र २३२;  
 सुपा, ८७; सण) ।  
 समग्ग वि [समग्ग] १ सकल, समस्त (सुपा  
 ६६) । २ युक्त, सहित (पएह १, ३—पत्र  
 ४४; कुप्र ७) ।  
 समग्गल वि [समग्गल] अत्यधिक (सिरि  
 ८६७; सुपा ३६७; ४२०) ।  
 समग्गल (अप) देखो समग्ग (पिग) ।  
 समग्ग पि [समग्ग] सस्ता, अल्प मूल्यवाला  
 (सुपा ४४५; ४४७; सम्मत १४१) ।  
 समच्चण न [समर्चन] पूजन, पूजा (सुपा ६) ।  
 समच्चिअ वि [समर्चित] पूजित (पउम  
 ११६, ११) ।  
 समच्छ अक [सम् + आस] १ बैठना ।  
 २ सक, अवलम्बन करना । ३ अचीन रखना ।  
 वक्र, समच्छेत (उप ६६८ टी) ।  
 समच्छ वि [समक्ष] प्रत्यक्ष का विषय  
 (सिंलि १५) । देखो समक्ख ।

समच्छायग वि [समाच्छादक] ढकनेवाला  
 (स ६६) ।  
 समञ्ज सक [सम् + अर्ज] पैदा  
 समञ्जिण करता, उपाजन करना । समञ्जइ,  
 समञ्जिणइ (सण; पत्र १०; महा) । वक्र,  
 समञ्जिणमाण (विपा १, १—पत्र १२) ।  
 संक्र, समञ्जिण (अप) (सण) ।  
 समञ्जिणिय वि [समजित] उपाजित  
 समञ्जिय (सण; ठा ३, १—पत्र  
 ११४; सुपा २०५; सण) ।  
 समञ्जासिय वि [समध्यासित] अविष्टित  
 (सुज १०, १) ।  
 समट्ट वि [समर्थ] संगत अर्थ, व्याजवी,  
 न्याय-युक्त (गाया १, १—पत्र ६२; उवा) ।  
 देखो समत्थ = समर्थ ।  
 समण न [शमन] १ उपशमन, दवाना, शान्त  
 करना (सुपा ३६६) । २ पय्यानुष्ठान (उवर  
 १४०) । ३ एक दिन का उपवास (संबोध  
 ५८) । ४ वि, उपशमन करनेवाला, दवाने-  
 वाला (उप ७८२; पंचा ४, २६; सुर ४,  
 २३१) ।  
 समण देखो स-मण = स-मनस् ।  
 समण देखो सवण = श्रवण (पउम १७,  
 १०७; राज) ।  
 समण पुं [समण] सर्वत्र समान प्रवृत्तिवाला,  
 मुनि, साधु (अणु) ।  
 समण पुं [श्रमण] १ भगवान् महावीर  
 (आचा २, १५, ३) । २ पुंस्त्री, निर्ग्रन्थ मुनि  
 साधु, यति, भिक्षु, संन्यासी, तापस; 'निर्ग्रन्थ-  
 सक्कतावसरेव्यभ्राजीवं पंचहा समणा' (पत्र  
 ६४; अणु; आचा; उवा; कप्प; विपा १, १;  
 घण २१; सुर १०, २२४) । बी. °णी (भग;  
 गच्छ १, १५) । °सीहं पुं [°सिंह] १ एक  
 जैन मुनि जो दूसरे बलदेव के पूर्वभवीय गुरु  
 थे (पउम-२०, १६२) । २ अष्टं मुनि (पएह  
 २, ५—पत्र १४८) । °वांसग, °वांसय  
 पुंस्त्री [°पासक] श्रावक, जैन गृहस्थ  
 (उवा) । बी. °सिया (उवा; गाया १,  
 १४—पत्र १८७) ।  
 समणंतरु (अप) न [समनन्तरम्] अनन्तर,  
 बाद में, पीछे (सण) ।

समणक्ख देखो स-मणक्ख = स-मनस्क ।  
 समणुगच्छ सक [समनु + गम्] १  
 समणुगम } अनुसरण करता । २ अच्छी  
 तरह व्याख्या करना । ३ अक. संबद्ध होना,  
 जुड़ जाना । वक्र, समणुगच्छमाण (गाया  
 १, १—पत्र २५) । कवक. समणुगामंत,  
 समणुगाममाण (औप; सूत्र २, २, ७६;  
 गाया १, १—पत्र ३२; कप्प) ।  
 समणुगय वि [समनुगत] १ अनुसृत (स  
 ७२०) । २ अनुविद्ध, जुड़ा हुआ (पंचा ६,  
 ४६) ।  
 समणुचिण्ण वि [समनुचीर्ण] आचरित-  
 विहित; 'तत्रो समणुचिण्णो' (पउम ६,  
 १६४) ।  
 समणुजाण सक [समनु + ज्ञा] १ अनुमोदन  
 करना, अनुमति देना । २ अविचार प्रदान  
 करना । समणुजाणइ, समणुजाणइ, समणु-  
 जाणेजा (आचा) । वक्र, समणुजाणमाण  
 (आचा) ।  
 समणुजाय वि [समनुजात] उत्पन्न, संजात  
 (पउम १००, २४; सुपा ५७८) ।  
 समणुनाय वि [समनुज्ञात] अनुमत,  
 अनुमोदित (पउम ८, ७) ।  
 ससणुन्न वि [समनुज्ञ] अनुमोदन-कर्ता  
 (आचा १, १, १, ५) ।  
 समणुन्न वि [समनोज्ञ] १ सुन्दर, मनोहर ।  
 २ सुन्दर वेप आदिवाला (आचा १, ८, १,  
 १) । ३ संविग्न, संवेग-युक्त मुनि (आचा १,  
 ८, २, ६) । ४ समान समाचारीवाला—  
 सांभोगिक मुनि (ठा ३, ३—पत्र १३६;  
 वव १) ।  
 समणुन्ना वी [समनुज्ञा] १ अनुमति, संमति  
 २ अविचार-प्रदान (ठा ३, ३—पत्र १३६) ।  
 समणुन्नाय देखो समणुनाय (आचा २, १,  
 १०, ४) ।  
 समणुपत्त वि [समनुप्राप्त] संप्राप्त (सुर १,  
 १८३, १०, १२०; सिरि ४३०; महा) ।  
 समणुवद्ध वि [समनुवद्ध] निरन्तर रूप से  
 व्याप्त (गाया १, ३—पत्र ६१; औप; उवा) ।  
 समणुभूअ वि [समनुभूत] अच्छी तरह  
 जिसका अनुभव किया गया हो वह (वे ६२) ।

समणुवत्त वि [समनुवृत्त] संवृत्त, संजात (पउम १०, १) ।

समणुवास सक [समनु + वासय्] १ वासना-युक्त करना । २ सिद्ध करना । ३ परिपालन करना: 'आयट्ठं सम्मं समणुवासि-त्तासि' (आचा १, २, १, ५; १, २, ४, ४; १, ५, ४, ५; १, ६, १, ६) ।

समणुमट्ट वि [समनुशिष्ट] अनुजात, अनुमत (आचा २, १, १०, ४) ।

समणुसास सक [समनु + शासय्] सम्यक् सीख देना: अच्छो तरह सिखाना । समणुसावयंति (सूय १, १४, १०) ।

समणुसिट्ठ वि [समनुशिष्ट] अच्छो तरह शिखित (बनु) । देखो समणुसट्ट (आचा २, १, १०, ४) ।

समणुहो सक [समनु + भू] अनुभव करना । समणुहोद (वव १) ।

समण्णागय वि [समन्वागत] १ समन्वित, सहित: 'छत्तीसणुणसमण्णागण्य' (गच्छ १, १२) । २ संप्राप्त (राय) ।

समण्णाहार पुं [समन्वाहार] समागमन (राज) ।

समण्णय देखो समन्निय (काल) ।

समतिवत्त देखो समइकंत (णया १, १—पत्र ६३) ।

समतुरंग सक [समतुरंगाव्] समान अथ की तरह आपस में आरोहण करना, आरलेप करना । वहु. समतुरंगेमाण (णया १, ८—पत्र १३४; पत्र १७४ टी) ।

समत्त वि [समस्त] १ संपूर्ण (परह १, ४—पत्र ६८) । २ सकल, सब (वित्ते ४७२) । ३ समाप्त-युक्त । ४ मिलित, मिला हुआ (हे २, ४५; पइ) ।

समत्त वि [समाप्त] पूर्ण, पूरा, सिद्ध, जो हो चुका हो वह (उवा: औप) ।

समत्ति लो [समाप्ति] पूर्णता (उप १४२; ७२८ टी; वित्ते ४१५; पत्र—गाया ६५; स ५३; सुपा २५३; ४३५) ।

समत्थ सक [सम् + अर्थय्] १ सावित करना, सिद्ध करना । २ पुष्ट करना । ३ पूर्ण करना । कर्म. समत्थीअइ (स १६५);

'उहो ति समत्थिअइ  
वाहेण सरोवहाण हेमंते ।

वरिण्हि एअइ जणो  
संगोवंतोवि अण्णाणं'  
(गा ७३०) ।

समत्थ देखो समत्त = समस्त (से ४, २८; सुर १, १८१; १६, ५५) ।

समत्थ वि [समर्थ] शक्त, शक्तिमान् (पात्र: ठा ४, ४—पत्र २८३; प्रासू २३; १८२; औप) ।

समत्थि वि [समर्थिन्] प्रार्थक, चाहनेवाला (कुप ३५१) ।

समत्थिअ वि [समर्थित] १ पूर्ण, पूरा किया हुआ (कुप ११५; सुपा २६६) । २ पुष्ट किया हुआ (सुर १६, ६५) । ३ प्रमाणित, सावित किया हुआ (अज्ज १२१) ।

समद्वासिय वि [समाध्यासित] अधिष्ठित (स ३५; ६७६) ।

समद्वि देखो समिद्धि (गा ४२६) ।

समन्नागय देखो समण्णागय (औप ७६४; णया १, १—पत्र ६४; औप: महा: ठा ३, १—पत्र ११७) ।

समन्नि सक [समनु + इ] १ अनुसरण करना । २ अक. एकत्रित होना, मिलना । समन्नेइ, समन्निति (वित्ते २५१७; औप) ।

समन्निअ वि [समन्वित] युक्त, सहित (हे ३, ४६; सुर ३, १३०; ४, २२०; गउड) ।

समन्ने देखो समन्नि ।

समप्प सक [सम् + अर्पय्] अर्पण करना, दान करना, देना । समप्पइ (महा) । वहु. समप्पंत, समप्पअंत, समप्पेत (नाट—मृच्छ १०५; रत्ता ५५; पउम ७३, १४) । संक. समप्पिअ, समप्पिऊण (नाट—मृच्छ ३१५; महा) । हे. समप्पिअं (महा) । क. समप्पियव्व (सुपा २५६) ।

समप्पं देखो समाव = सम् + आप् ।

समप्पण न [समर्पण] अर्पण, प्रदान (सुर ७, २२; कुप १३; वजा ६६) ।

समप्पणया लो [समर्पणा] ऊपर देखो (उप १७६) ।

समप्पिय वि [समर्पित] दिया हुआ (महा; काल) ।

समवभस सक [समभि + अस] ग्रन्थास करना । समवभसह (द्रव्य ४७) ।

समवभहिअ वि [समभ्यधिक] अत्यन्त अधिक (से १५, ८५) ।

समवभास पुं [समभ्यास] निकट, पास (पउम ३३, १७) ।

समवभिडिय वि [दे] मिड़ा हुआ, लड़ा हुआ (पउम ८६, ४८) ।

समभिआवण्ण वि [समभ्यापन्न] संमुख आया हुआ (सूय १, ४, २; १४) ।

समभिजाण सक [समभि + ज्ञा] १ निर्णय करना । २ प्रतिज्ञा-निर्वाह करना । समभिजाणिया, समभिजाणाहि (आचा) । वहु. समभिजाणमाण (आचा) ।

समभिद्व सक [समभि = द्रु] हेरान करना । समभिद्वंति (उत्त ३२, १०) ।

समभिधंस सक [समभि + धंसय] नष्ट करना । समभिधंसिअ, समभिधंसेति (भग) ।

समभिपड सक [समभि + पत्] आक्रमण करना । हे. समभिपडित्तए (अंत २१) ।

ससभिभूअ वि [समभिभूत] अत्यन्त परा-भूत (उवा: वमंवि ३४) ।

समभिल्ल पुं [समभिल्ल] नय-विशेष (ठा ७—पत्र ३६०) ।

समभिल्लोअ सक [समभि + लोक्] देखना, निरीक्षण करना । समभिल्लोएइ (भग १५—पत्र ६७०) । वहु. समभिल्लोएमाण (परण १७—पत्र ५१८) ।

समभिल्लोइअ वि [समभिल्लोक्ति] विलो-क्ति, दृष्ट (भग १५—पत्र ६७०) ।

समय अक [सम् + अय] समुदित होना, एकत्रित होना: 'सव्वे समयंति सम्मं वेगव-साओ नया विव्धावि' (वित्ते २२६७) ।

समय पुं [समय] १ काल, वक्त, अवसर (आचा: सूअनि २६; कुमा) । २ काल-विशेष, सर्व-सूक्ष्म काल, जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके ऐसा सूक्ष्म काल (अणु; इक; कम्म २, २३; २४; ३०) । ३ मत्. दर्शन (प्राप) । ४ सिद्धान्त, शास्त्र, आगम (आचा; विड ६;

सुअनि २६; कुमा; दं २२) । ५ पदार्थं, चीज, वस्तु (सम्म १ टी. घुट्ट ११४) । ६ संकेत, इशारा (सुअनि २६; पिड ६; प्राप; से १, १६) । ७ समीचीन परिणति, सुन्दर परिणाम । ८ आचार, रिवाज । ९ एकवाक्यता (सुअनि २६) । १० सामायिक, संयम-विशेष (विसे १४२१) । 'खेत्त, खेत्त न [क्षेत्र] कालोपलक्षित भूमि, मनुष्य-लोक, मनुष्य-क्षेत्र (भग; सम ६८) । 'ज्ज, ण्ण; 'न्न वि [इ] समय का जानकार (घण ३६; गा ४०५; पि २७६) ।

समय देखो स-मय = स-मद ।

समय } अ [समकम्] १ युगपत्, एक समय } साय (पव २१६ टी; विसे १६६६; १६६७; सुर १, ५; महा; गजड ११०६) । २ सह, साथ (गा ६१) ।

समया देखो सम-या ।

समया अ [समया] पास, नजदीक (सुपा १८८) ।

समर सक [स्मृ] याद करना । क. समरणीय (चव २७; नाट. शकु ६), समरियञ्च (रयण २८) ।

समर देखो सवर (हे १, २५८; षड्) । व्री. 'री (कुमा) ।

समर पुंन [समर] १ युद्ध, लड़ाई (से १३, ४७; उप ७२८ टी; कुमा) । २ छन्द-विशेष (पिग) । ३ लोहकारशाला (उत्त० ग्रन्थ० १ गा० २६) । 'इच्च पुं [ादित्य] अवनन्ती-देश का एक राजा (स ५) ।

समर वि [स्मार] कामदेव-संबन्धी, कामदेव का (मन्दिर आदि); (उप ४५४) ।

समरइत्तु वि [स्मर्तु] स्मरण-कर्ता (सम १५) ।

समरण न [स्मरण] स्मृति, याद (धर्मवि २०, प्राप ६८) ।

समरसद्दहय पुं [दे] समान उन्नवाला (दे ८, २२) ।

समराइअ वि [दे] पिष्ट, पिसा हुआ (षड्) ।

समरी देखो समर = शवर ।

समरेत्तु देखो समरइत्तु (ठा ६—पत्र ४४४) ।

समलंकर सक [समलम् + कृ] विभूषित करना । समलंकरेइ (आचा २, १५, ५) । संकृ. समलंकरेत्ता (आचा २, १५, ५) ।

समलंकार सक [समलम् + कारय्] विभूषित करना, विभूषा-युक्त करना । समलंकरेइ (ग्रौप) । संकृ. समलंकारेत्ता (ग्रौप) ।

समलद्ध (अप) वि [समालद्ध] विलिप्त (भवि) ।

समल्लिअ अक [समा + ली] १ संबद्ध होना । २ लीन होना । ३ सक. आश्रय करना । समल्लियइ (आक ४७) । वकृ. समल्लिअंत (से १२, १०) ।

समल्लिण वि [समालीन] अच्छी तरह लीन (ग्रौप) ।

सकवइण्ण वि [समवतीण] अवतीण (सुपा २२) ।

समवट्ठाण न [समवस्थान] सम्यग् ध्रुवस्थिति (अज्ज १४७) ।

समवट्ठिइ व्री [समवस्थिति] ऊपर देखो; 'कोई विति मुणीणं सहावसमवट्ठिइ हवे चरणं' (अज्ज १४६) ।

समवन्ति देखो सम-वन्ति = सम-वन्तिन् ।

समवयं देखो समवे ।

समवसर देखो समोसर = समव + स (प्राप्ता) ।

समवसरण देखो समोसरण (सुअनि ११६) ।

समवसरिअ देखो समोसरिअ = समवच्छत (धर्मवि ३०) ।

समवसेअ वि [समवसेय] जानने योग्य, ज्ञातव्य (सा ४) ।

समवाइ वि [समवायिन्] समवाय संबन्ध का, समवाय-संबन्धी (विसे १६२६; धर्मसं ४८७) ।

समवाय पुं [समवाय] १ संबन्ध-विशेष, गुण-गुणी आदि का संबन्ध (विसे २१०८) । २ संबन्ध (पउम ३६, २५; धर्मसं ४८१; विवे ११६) । ३ समूह, समुदाय (सुअ २, १, २२; श्रौष ४०७; अणु २७० टी; पिड २; आरा २; विसे ३५६३ टी) । ४ एकत्र करना; 'काउं तो संघसमवायं' (विसे

२५४६) । ५ जैन अंग-ग्रंथ-विशेष, चौथा अंग-ग्रंथ (सम १) ।

समवे अक [समव + इ] १ शामिल होना । २ संबद्ध होना । समवेदि (शौ) (मोह ६३), समवयंति (विसे २१०६) ।

समवेद (शौ) वि [समवेत] समुदित, एक-वित (मोह ७८) ।

समसम अक [समसमाय्] 'सम्' 'सम्' आवाज करना । वकृ. समसमंत (भवि) ।

समसरिस देखो सम-सरिस ।

समसाण देखो मसाण; 'समसाणे सुचवरे देवउले वावि तं वससु' (सुपा ४०८) ।

समसीस वि [दे] १ सहस्र, तुल्य । २ निर्भर (दे ८, ५०) । ३ न. स्वर्गा (से ३, ८) ।

समसीसिआ } व्री [दे] स्वर्गा, वरावरी  
समसीसी } (सुपा ७; वज्जा २४; कप्पु; दे ८, १३; सुर १, ८; वज्जा ३२; १५४; विवे ४५; सम्मत १४५; कुप्र ३३४) ।

समस्सअ सक [समा + श्रि] आश्रय करना । समस्सअइ (पि ४७३) । संकृ. समस्सअ (पि ४७३) ।

समस्सस अक [समा + श्वस्] आश्रवा-सन प्राप्त करना, सान्त्वना मिलना । समस्स-सव (शौ) (पि ४७१) । हेकृ. समस्ससिदुं (शौ) (नाट. शकु ११६) ।

समस्ससिद् (शौ) देखो समासत्थ (नाट—मुच्छ २५८) ।

समस्सा व्री [समस्या] वाकी का भाग जोड़ने के लिए दिया जाता श्लोक-चरण या पद आदि (सिरि ८६८; कुप्र २७; सुपा १५५) ।

समस्सास सक [समा + श्वासय्] सान्त्वना करना, दिलासा देना । समस्सासदि (शौ) (नाट) । वकृ. समस्सासअंत (अभि २२२) । हेकृ. समस्सासिदं (शौ) (नाट—मुच्छ ८१) ।

समस्सास पुं [समाश्वास] आश्रवासन (विक्र ३५) ।

समस्सासण न [समाश्वासन] ऊपर देखो (मे ७५) ।

समस्सिअ वि [समाश्रित] आश्रय में स्थित, आश्रित (स ६३५; उप पृ ४७; सुर १३, २०४; महा) ।

समहिअ वि [समधिक] विशेष ज्वादा (प्राप्त १७८; महा: कुमा; सुर ४, १६६; सण) ।  
 समहिगय वि [समधिगत] १ प्राप्त, मिला हुआ । २ ज्ञात (सण) ।  
 समहिदु नक [समधि + स्था] कावू में रखना, अधीन रखना । कवक, समहिद्वि-ज्जमाण (राय १३२) ।  
 समहिद्विउ वि [समधिद्विउ] अव्यक्त, मुली, अधिपति (ग्राचा २, २, ३, ३; २, ७, १, २) ।  
 समहिद्विअ वि [समधिद्विअ] आश्रित (उप ७२८ टो. सुपा २०६) ।  
 समहिद्विदय देखो स-महिद्विदय = स-महद्विक ।  
 समहिणदिय वि [समभिनन्दित] आनन्दित, खुशी किया हुआ (उप ५३० टो) ।  
 समहिल वि [समखिल] सकल, समस्त (गउड) ।  
 समहुत्त वि [दे] संमुख, अभिमुख (अणु २२२) ।  
 समा वी [समा] १ वर्ष, बारह मास का समय (जी ४१) । २ काल, समय (सम ६७; डा-२, १—पत्र ४७; कप्प) ।  
 समाअम देखो समागम (अभि २०२; नाट, मालती ३२) ।  
 समाइच्छ सक [समा + गम्] १ सामने आना । २ समावर करना, सत्कार करना । संक. समाइच्छऊण (महा) ।  
 समाइच्छिय वि [समागत] आहत, सत्कृत (स ३७२) ।  
 समाइदु वि [समादिष्ट] फरमाया हुआ (महा) ।  
 समाइदु वि [समाविदु] वेष किया हुआ (से ६, ३८) ।  
 समाइण वि [समाकीर्ण] व्याप्त (श्रौप; सुर ४, २४१) ।  
 समाइण वि [समाकीर्ण] श्रेष्ठी तरह समाइण } आचरित (भग; उप ८१३; विचार ८६५) ।  
 समाउट्ट अक [समा + वृत्] नष्ट होना, तमना, अधीन होना । भूका, समाउट्टिसु (सुअ २, १, १८) ।

समाउट्ट वि [समावृत्] विनष्ट (वव १) ।  
 समाउत्त वि [समायुक्त] युक्त, सहित (श्रौप; सुपा ३०१) ।  
 समाउल वि [समाकुल] १ संमिश्र, मिश्रित (राय) । २ व्याप्त (सुपा ३०५) । ३ प्राकुल, व्याकुल (हे ४, ४४४; सुर ६, १७४) ।  
 समाउलिअ वि [समाकुलित] व्याकुल बना हुआ (स ६६) ।  
 समाएस पुं [समादेश] १ आज्ञा, हुकुम (उप १०२१ टो) । २ विवाह आदि के उपलक्ष में किए हुए जोमन में ववा हुआ वह खाद्य जिसको निग्रन्थों में बाँटने का संकल्प किया गया हो (पिड २२६; २३०) ।  
 समाएसण न [समादेशन] आज्ञा, हुकुम (भवि) ।  
 समाओग पुं [समायोग] स्थिरता (तंडु १४) ।  
 संमाओसिय वि [समातोपित] संतुष्ट किया हुआ (भवि) ।  
 समाकरिस सक [समा + कृप्] खींचना । हेछ. समाकरिसिउं (पि ५७५) ।  
 समाकरिसण न [समाकर्षण] खींचाव (सुपा ४) ।  
 समाकार सक [समा + कारय्] आह्वान करना, दुलाना । संक. समाकारिय (सम्मत २२६) ।  
 समागच्छ देखो समागम = समा + गम् ।  
 समागत देखो समागय (सुर २, ८०) ।  
 समागम सक [समा + गम्] १ सामने आना । २ आगमन करना । ३ जानना । समागच्छइ (महा) । भवि. समागमिस्सइ (पि ५२३) । संक. समागच्छिअ (पि ५८१), 'विन्नाणेण समागम्म (उत्त २३, ३१) ।  
 समागम पुं [समा + गम्] १ संयोग, संवन्व (गउड; महा) । २ प्राप्ति (सुअ १, ७; ३०) ।  
 समागमण न [समागमन] ऊपर देखो (महा) ।  
 समागय वि [समागत] आया हुआ (पि ३६७ ए) ।

समागूढ वि [समानूढ] समाच्छिष्ट, आलिगित (पउम ३१, १२२) ।  
 समाज पुं [समाज] समूह, संघात (धर्मवि १२३) । देखो समाज = समाज ।  
 समाजुत्त न [समायुक्त] संयोजन, जोड़ना (राय ४०) ।  
 समादत्त वि [समारब्ध] १ आरब्ध, जिनका प्रारम्भ किया गया हो वह (काल; पि २२३; २८६) । २ जिसने आरम्भ किया हो वह; 'एवं भणितं समादत्तो' (सुर १, ६६) ।  
 समाण सक [भुज्] भोजन करना, खाना । समाणइ (हे ४, ११०; कुमा) ।  
 समाण सक [सम् + आप्] समाप्त करना, पूरा करना । समाणइ (हे ४, १४२), समाणेमि (स ३७६) ।  
 समाण वि [समान] १ सदृश, तुल्य, सरिखा (कप्प) । २ मान-महित, अहंकारी (से ३, ४६) । ३ पुंन. एक देव-विमान (सम ३५) ।  
 समाण वि [सत्] विद्यमान, होता हुआ (उवा; विपा १, २—पत्र ३४) । व्री. ०णी (भग; कप्प) ।  
 समाण देखो संमाण = संमान (से ३, ४६) ।  
 समाणअ वि [समापक] समाप्त करनेवाला (से ३, ४६) ।  
 समाणण न [भोजन] भक्षण, खाना; 'तंवील-समाणणपज्जाउलवयणयाए' (स ७२) ।  
 समाणत्त वि [समाह्वय] जिसको हुकुम दिया गया हो वह (महा) ।  
 समाणिअ देखो संमाणिय (से ३, २४) ।  
 समाणिअ वि [समानीत] जो लाया गया हो वह, आनीत (महा; सुपा ५०५) ।  
 समाणिअ वि [समाप्त] पूरा किया हुआ (से ६, ६२; एया १, ८—पत्र १३३; स ३०१; कुमा ६, ६५) ।  
 समाणिअ वि [दे] म्यान किया हुआ, म्यान में डाला हुआ; 'विलिएण त्वलएण चैव समाणियं मंडलणं' (स २४२) ।  
 समाणिअ वि [भुक्त] भक्षित, खाया हुआ (स ३१५) ।  
 समाणिआ वी [समानिका] छन्द-विशेष (पिग) ।

समाणी सक [समा + नी] ले आना ।  
 समाणेइ (विसे १३२५) ।  
 समाणी देखो समाण = सत् ।  
 समाणु (अप) देखो समं (हे ४, ४१८;  
 कुमा) ।  
 समादह सक [समा + दह] जलाना,  
 सुलगाना । वक्र. समादहमाण (आचा १,  
 ६, २, १४) ।  
 समादा सक [समा + दा] ग्रहण करना ।  
 संक्र. समादाय (आचा १, २, ६, ३) ।  
 समादाण न [समादान] ग्रहण (राज) ।  
 समादिट्ट वि [समादिष्ट] फरमाया हुआ  
 (मोह ८६) ।  
 समादिस सक [समा + दिश्] आज्ञा  
 करना । संक्र. समादिसिअ (नाट) ।  
 समादेस देखो समाएस (नाट—मालती  
 ४६) ।  
 समाधारणया लो [समाधारणा] समान  
 भाव से स्थापन (उत्त २६, १) ।  
 समाधि देखो समाहि (ग १०—पत्र ४७३) ।  
 समापणा लो [समापना] समाप्ति (विसे  
 ३५६५) ।  
 समाभरिअ वि [समाभरित] आभरण-युक्त  
 (अणु २५३) ।  
 समाय पुं [समाज] १ सभा, परिपत् (उत्त  
 ३०, १७; अचु ४) । २ पशु-मिन्न श्रव्यों  
 का समूह, संघात । ३ हाथी (पड्) ।  
 समाय पुं [समाय] सामायिक, संयम-विशेष  
 (विसे १४२१) ।  
 समाय देखो समयाय; 'एते चैव य दोसा  
 पूरिससमाएवि इत्थियाणंपि' (सुअनि ६३;  
 राज) ।  
 समायं देखो समयं (भग २६, १—पत्र  
 ६४०) ।  
 समायण सक [समा + कर्णय्] चुनना ।  
 संक्र. समायणिऊण (महा) ।  
 समायणगण न [समाकर्णन] श्रवण (गउड) ।  
 समायणिणय वि [समाकर्णित] चुना हुआ  
 (काल) ।  
 समायय सक [समा + दद्] ग्रहण करना,  
 स्वीकार करना । समाययति (उत्त ४, २) ।  
 समायय देखो समागय (भवि) ।

समायर सक [समा + चर्] आचरण  
 करना । समायरइ (उवा; उव), समायरेसि  
 (निता ५) । कृ. समायरियव्व (उवा) ।  
 समायरिय वि [समाचरित] आचरित  
 (गउड) ।  
 समाया देखो समादा । संक्र. समायाय  
 (आचा १, ३, १, ४) ।  
 समायाय वि [समायात] समागत (उप  
 ७२८ टी) ।  
 समायार पुं [समाचार] १ आचरण (विपा  
 १, १—पत्र १२) । २ सदाचार (अणु  
 १०२) । ३ वि. आचरण करनेवाला (णंदि  
 ५२) ।  
 समार सक [समा + रचय्] १ ठीक  
 करना, दुस्त करना । २ करना, बनाना ।  
 समारइ (हे ४, ६५; महा) । भूका. समारीअ  
 (कुमा) । वक्र. समारंत (पउम ६८, ४०) ।  
 समार सक [समा + रभ्] प्रारंभ करना ।  
 समारइ (पड्) ।  
 समार वि [समारचित] बनाया हुआ,  
 'अद्वसमारम्मि जरकुडीरम्मि' (सुर २, ६६) ।  
 समारंभ सक [समा + रभ्] १ प्रारंभ  
 करना । २ हिंसा करना । समारंभेज्जा  
 (आचा) । वक्र. समारंभंत, समारंभमाण  
 (आचा) । प्रयो. समारंभावेज्जा (आचा) ।  
 समारंभ पुं [समारम्भ] १ पर-परिताप,  
 हिंसा (आचा; पएह १, १—पत्र ५; या  
 ७); 'परितावकरो भवे समारंभो' (संघोव  
 ४१) । २ प्रारंभ (कप्पु) ।  
 समारचण न [समारचन] १ ठीक करना,  
 समारण दुस्त करना; 'कारेइ जिए-  
 हराणं समारणं जुएणभगवडियाणं' (पउम  
 ११, ३) । २ वि. विधायक, कर्ता (कुमा) ।  
 समारद्ध देखो समाडत्त (सुर १, १; स  
 ७६४) ।  
 समारभ देखो समारंभ = समा + रभ् ।  
 समारह समारभे, समारभेज्जा, समारभेज्जासि,  
 समारहइ (सुअ १, ८, ५; पि ४३०; पड्) ।  
 संक्र. समारम्भ (पि ५६०) ।  
 समारिय वि [समारचित] दुस्त-क्रिया  
 हुआ (कुप्र ३३४) ।

समारह सक [समा + रह्] आरोहण  
 करना, चढ़ना । समारहइ (भवि; पि ४८२) ।  
 वक्र. समारहंत (गा ११) । संक्र. समारहिय  
 (महा) ।  
 समारहण न [समारोहण] आरोहण,  
 चढ़ना (सुपा २५३) ।  
 समारुड वि [समारुड] चढ़ा हुआ (महा) ।  
 समारोव सक [समा + रोपय्] चढ़ाना ।  
 संक्र. समारोविय (पि ५६०) ।  
 समारंकार } देखो समलंकार = समलं +  
 समारंके } कार्य । समारंकारेइ, समारंकेइ  
 (औप; आचा २, १५, १८) । संक्र. समा-  
 लंकारेत्ता, समारंकेत्ता (औप; आचा २,  
 १५, १८) ।  
 समारंय पुं [समारंय] आलम्बन, सहारा  
 (संघोव ४०) ।  
 समारंभण न [समारंभण] अलंकरण,  
 विभूषा करना; 'मंगलसमारंभणाणि विरएभि'  
 (अभि १२७) । देखो समारंभण ।  
 समारत्त वि [समारपित] उक्त, कथित;  
 'पवणंजरो समारत्तो' (पउम १५, ८८) ।  
 समारंभण न [समारंभण] विलेपन,  
 अंगराग (नुर १६, १४) । देखो समारंभण  
 समारय सक [समा + लप्] विस्तार  
 से कहना । समारवेज्जा (सुअ १, १४;  
 २४) ।  
 समारवणी लो [समारवणी] वाद्य-विशेष,  
 'विणुवीणासमारवणिरवसुंदरं भल्लरिओससंभो-  
 सवरसुहितरं' (सुपा ५०) ।  
 समारविय देखो समारत्त (भवि) ।  
 समारह सक [समा + लभ्] १ विलेपन  
 करना । २ विभूषा करना, अलंकार पहनना ।  
 संक्र. समारहियि (अप) (भवि) ।  
 समारहण देखो समारंभण (सुपा १०८;  
 दस ३, १ टी; नाट—शक्रु ७३) ।  
 समारय पुं [समारय] वातचित्त, संभाषण  
 (पउम ३०, ३) ।  
 समारिणिय वि [समारिणित] आलिगित,  
 आशिल्ट (भवि) ।  
 समालीड वि [समारिल्ट] ऊपर देखो  
 (भवि) ।



समालोच पुं [समालोच] विचार, विमर्श (उप ३६६)।

समालोचन न [समालोचन] सामान्य अर्थ का दर्शन (वित्ते २७६)।

समाव सक [सम् + आप्] पूरा करना। समावेइ (हे ४, १४२)। कर्म. समप्पइ (हे ४, ४२२)।

समावर्ज्य वि [समावर्जित] प्रसन्न किया हुआ (महा)।

समावड अक [समा + पन्] ? संमुख आकर पढ़ना, गिरना। २ लगना। ३ सम्बन्ध करना। समावडइ (नवि)।

समावडण न [समापतन] पढ़ना, गिरना (गउड)।

समावडिय वि [समापतित] ? संमुख आकर गिरा हुआ (सुर २, ६; सुपा २०३)। २ बढ (श्रीप)। ३ जो होने लगा हो वह; 'समावडिय जुद्ध' (स ३८३; महा)।

समावण्ण वि [समापन्न] संप्राप्त (सम १३४; नग)।

समावत्ति व्री [समावाप्ति] समाप्ति, पूर्णता; 'ति य समावत्तोए विहरंता' (सुख २, ७)।

समावद सक [समा + वद्] बोलना, कहना। समावदेजा (आचा १, १५, ५४)।

समावन्न देखो समावण्ण (स ४७६; उवा; ठा २, १—पत्र ३८; दस ५, २, २)।

समावय देखो समावद। समावइजा (आचा २, १५, ५)।

समावय देखो समावड। वहु. समावयंत (दस ६, ३, ८)।

समाविअ वि [समापित] पूर्ण किया हुआ (गा ६१; दे ७, ४५)।

समास अक [सम् + आस्] ? बैठना। २ रहना। समासइ (नवि)।

समास सक [समा + अस्] अच्छी तरह फेंकना। कर्म. समासिज्जंति (एदि २२६)।

समास पुं [समास] ? संक्षेप, संकोच (जीवस १; जी २१)। २ सामायिक, संयम-विशेष (वित्ते २७६५)। ३ व्याकरण-प्रसिद्ध एक प्रक्रिया, अनेक पदों के मेल करने की रीति

(पएह २, २—पत्र ११४; अणु; विसे १००३)। ४ समीप (दश वै० वृद्ध० पत्र)।

समासंग पुं [समासङ्ग] संयोग (गा ६६१ ?)।

समासंगय वि [समासंगत] संगत, सम्बद्ध (रंता)।

समासज्ज देखो समासाद्।

समासत्थ वि [समाश्वस्त] ? आवासन-प्राप्त (पठम १८, २८; से १२, ३७; मुल २, ६)। २ स्वस्व बना हुआ (स १२०; सुर ६, ६६)।

समासय पुं [समाश्रय] आश्रय, स्थान (पठम ७, १६८; ४२, ३५)।

समासय सक [समा + स्तु] आना, आगमन करना। समासयदि (द्रथ ३१)।

समासस देखो समस्सस। कृ. समाससि-अच्च (से ११, ६५)।

समासाद् (श्री) सक [समा + सादय्] प्राप्त करना। समासादेहि (स्वप्न ३७)। कृ.

समासाद्इद्वय (मा ३६)। संकृ. समा-सज्ज, समासिज्ज (आचा १, ८, ८, १; पि २१)।

समासादिअ वि [समासादित] प्राप्त (दस १, १ टी)।

समासासिय वि [समाश्वसित] जिसको आवासन दिया गया हो वह (महा)।

समासि सक [समा + श्रि] सम्पन् आश्रय करना। कर्म. समासिज्जइ, समासिज्जंति (एदि २२६)।

समासिज्ज देखो समासाद्।

समासिय वि [समाश्रित] आश्रय-प्राप्त (पठम ८०, ६४)।

समासिय वि [समासित] उपवेशित, बैठाया हुआ (नवि)।

समासीण वि [समासीन] बैठा हुआ (महा)।

समाहट्टु देखो समाहर।

समाहड वि [समाहृत] ? विशुद्ध, निर्मल; 'असमाहडाए लेसाए' (आचा २, १, ३, ६)। २ स्वीकृत (राज)।

समाहय वि [समाहृत] आवात-प्राप्त, आहृत (श्रीप; सुर ४, १२७; सण)।

समाहर सक [समा + हृ] ? प्रवृत्त करना। २ एकत्रित करना। संकृ. समाहट्टु (सूत्र १, ८, २६; १, १०, १५), समाहरिवि (प्रप) (नवि)।

समाहयिअ वि [समाहृत] आहृत, बुनाया हुआ (वर्गवि ६०)।

समाहाण न [समाधान] ? समाधि (उप ३२० टी)। २ श्रोतुस्य-निवृत्ति रूप स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति, चित्त-स्वस्थता (अणु १३६; सुपा ५४८)।

समाहार पुं [समाहार] ? समूह, 'अहव्व-समाहारो भाविज्जइ एस विज्जोघो' (धु ११५)। 'दंढ पुं [दंढ] व्याकरण-प्रसिद्ध समास-विशेष (चइय ६६०)।

समाहारा व्री [समाहारा] ? दक्षिण द्वार पर रहनेवाली एक दिक्कुरारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६; इक)। २ पल की वारहवाँ राति (सुज्ज १०, १४)।

समाहि पुं व्री [समाधि] ? चित्त की स्वस्थता, मनोदुःख का ग्रनाव (सम ३७, उत १६, १; सुख १६, १; चइय ७७७)। २ स्वस्थता; 'साहाहि वक्को लभते समाहि धिनाहि सहाहि तंनव खाणु' (उत १४, २६)। ३ धर्म। ४ शुभ ध्यान, चित्त की एकाग्रता-रूप व्यानावस्था (सूत्र १, १०, १; सुपा ८६)। ५ समता, राग आदि का ग्रनाव (ठा १० टी—पत्र ४७४)। ६ युतज्ञान। ७ चारित्र्य, संयमानुष्ठान (ठा ४, १—पत्र १६५)। ८ पुं. भरतक्षेत्र के सतरहवें भावी तीर्थंकर (सम १५४; पत्र ४६)। °पडिमा व्री [°प्रतिमा] समाधि-विषयक व्रत-विशेष (ठा ४, १)। °पाण न [°पान] शकर आदि का पानी (भत ४०)। °मरण न [°मरण] समाधि-युक्त मौत (पडि)।

समाहिअ वि [समाहित] ? समाधि-युक्त (सूत्र १, २, २, ४; सूत्रनि १०६, उत १६, १५; पठम ६०, २४; श्रीप; महा)। २ अच्छी तरह व्यवस्थापित। ३ उपस्थित (आचा १, ८, ६, ३)। ४ समापित (वित्ते ३५६३)। ५ शोभन, सुन्दर। ६ अवीभक्त। ७ निर्दोष (सूत्र १, ३, १, १०)।

समाहिअ वि [समाहित] ? समाधि-युक्त (सूत्र १, २, २, ४; सूत्रनि १०६, उत १६, १५; पठम ६०, २४; श्रीप; महा)। २ अच्छी तरह व्यवस्थापित। ३ उपस्थित (आचा १, ८, ६, ३)। ४ समापित (वित्ते ३५६३)। ५ शोभन, सुन्दर। ६ अवीभक्त। ७ निर्दोष (सूत्र १, ३, १, १०)।

समाहिअ वि [समाहित] ? समाधि-युक्त (सूत्र १, २, २, ४; सूत्रनि १०६, उत १६, १५; पठम ६०, २४; श्रीप; महा)। २ अच्छी तरह व्यवस्थापित। ३ उपस्थित (आचा १, ८, ६, ३)। ४ समापित (वित्ते ३५६३)। ५ शोभन, सुन्दर। ६ अवीभक्त। ७ निर्दोष (सूत्र १, ३, १, १०)।

समाहिअ वि [समाहित] ? समाधि-युक्त (सूत्र १, २, २, ४; सूत्रनि १०६, उत १६, १५; पठम ६०, २४; श्रीप; महा)। २ अच्छी तरह व्यवस्थापित। ३ उपस्थित (आचा १, ८, ६, ३)। ४ समापित (वित्ते ३५६३)। ५ शोभन, सुन्दर। ६ अवीभक्त। ७ निर्दोष (सूत्र १, ३, १, १०)।

समाहिअ वि [समाहित] ? समाधि-युक्त (सूत्र १, २, २, ४; सूत्रनि १०६, उत १६, १५; पठम ६०, २४; श्रीप; महा)। २ अच्छी तरह व्यवस्थापित। ३ उपस्थित (आचा १, ८, ६, ३)। ४ समापित (वित्ते ३५६३)। ५ शोभन, सुन्दर। ६ अवीभक्त। ७ निर्दोष (सूत्र १, ३, १, १०)।

समाहिअ वि [समाहृत] गृहीत (आचा १, ८, ५, २) ।

समाहिअ वि [समाख्यात] सम्यग् कथित (सूत्र १, ६, २६; आचा २, १६, ४) ।

समाहुत्त (अप) नीचे देखो (भवि) ।

समाहूअ वि [समाहूत] बुलाया हुआ, आका-रित (साध १०५) ।

समाहे सक [समा + धा] स्वल्प करना, 'सुकृष्णान् समाहेइ' (संबोध ५१) ।

समि वी [शमि] देखो समी (अणु; पात्र) ।

समि } वि [शमिन्, क] १ शम-युक्त ।

समिअ } २ पुं. साधु, मुनि (सुपा ४३६; ६४२; उप १४२ टी) ।

समिअ देखो संत = शान्त (सिरि ११०४) ।

समिअ वि [समित] सम्यक् प्रवृत्ति करने-वाला, सावधान होकर गति आदि करनेवाला (भग; उप ६०४; कप्प; औप; उव; सूत्र १, १६, २; पव ७२) । २ राग-आदि से रहित (सूत्र १, ६, ४) । ३ उपपन्न (सुज ६) । ४ सम्यग् गत (सूत्र १, ६, ४) । ५ सन्तत (ठा २, २—पत्र ५८) । ६ सम्यग् व्यवस्थित (सूत्र २, ५, ३१) ।

समिअ वि [सम्यञ्च] १ सम्यक् प्रवृत्ति-वाला (भग २, ५—पत्र १४०) । २ अच्छा, सुन्दर, शोभन, समीचीन (सूत्र २, ५, ३१) ।

समिअ वि [शमित] शान्त किया हुआ (विसे २४५८; औप; पएह २, ५—पत्र १४८; सण) ।

समिअ वि [श्रमित] श्रम-युक्त (भग २, ५—पत्र १४०) ।

समिअ वि [समिक] सम, राग-द्वेष-रहित; 'समियभावे' (पएह २, ५—पत्र १४६) ।

समिअ न [साम्य] समता, रागादि का अभाव, सम-भाव (सूत्र १, १६, ५; आचा १, ८, ८, १४) ।

समिअ वि [समित] प्रमाणोपेत (आया १, १—पत्र ६२; भग) ।

समिअ वि [सामित] गेहूँ के आटा का बना हुआ पक्का-विशेष, मण्डक (पिड २४५) ।

समिअं अ [सम्यग्] अच्छी तरह (आचा; पएह २, ३—पत्र १२३) ।

समिआ वी. अ. ऊपर देखो (भग २, ५—पत्र १४०; आचा १, ५, ५, ४), 'समियाए' (आचा १, ५, ५, ४) ।

समिआ वी [समिता] गेहूँ का आटा (आया १, ८—पत्र १२२; सुज ४, ५) ।

समिआ वी [समिका, शमिका, शमिता] चमर आदि सब इन्द्रों की एक अभ्यन्तर परिपद (भग ३, १० टी—पत्र २०२) ।

समिइ वी [समिति] १ सम्यक् प्रवृत्ति, उपयोग-पूर्वक गमन-भाषण आदि क्रिया (सम १०; ओषभा ३; उव; उप ६०२; रयण ४) । २ समा; परिपद; 'नतिय किर देवलोगेवि देवसमिइसु ओगासो' (विसे १३६ टी; तंडु २५ टी) । ३ पुद्ग, लड़ाई (रयण ४) । ४ निरन्तर मिलन (अणु ४२) ।

समिइ वी [स्मृति] १ स्मरण । २ शास्त्र-विशेष; मनुस्मृति आदि (सिरि ५५) ।

समिइम वि [समितिम] गेहूँ के आटे की बनी हुई मंडक आदि वस्तु (पिड २०२) ।

समिजग पुं [समिजक] शौचिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १३६) ।

समिक्ख सक [सम् + ईक्ष्] १ आलोचना करना, गुणदोष-विचार करना । २ पर्यालोचन करना, चिन्तन करना । ३ अच्छी तरह देखना, निरीक्षण करना । समिक्खए (उत्त २३, २५) । संक. समिक्ख (सूत्र १, ६, ४; उत्त ६, २; महा; उपप २५) ।

समिक्खा वी [समीक्ष] पर्यालोचना (सूत्र १, ३, ३, १४) ।

समिक्खिअ वि [समीक्षित] आलोचित (वर्मसं ११११) ।

समिच्च देखो समे ।

समिच्चण न [समीक्षण] समीक्षा (भवि) ।

समिच्चिय देखो समिक्खिअ (भवि) ।

समिज्जा अक [सम् + इन्ध्] चारों तरफ से चमकना । समिज्जाइ (हे २, २८) । वक. समिज्जन्त (कुमा ३, ४) ।

समिता देखो समिआ = समिका (ठा ३, २—पत्र १२७; भग ३, १०—पत्र ३०२) ।

समिद्ध वि [समृद्ध] १ अतिशय संपत्तिवाला (औप; आया १, १ टी—पत्र १) । २ बुद्ध, बड़ा हुआ (प्रासू १३) ।

समिद्धि वी [समृद्धि] १ अतिशय संपत्ति । २ वृद्धि (हे १, ४४; पड; कुमा; स्वप्न ६५; प्रासू १२८) । ल वि [ल] समृद्धिवाला (सुर १, ४६) ।

समिर पुं [समिर] पवन, वायु (सम्मत्त १५६) ।

समिरिईअ } देखो स-मिरिईअ = समरी-समिरीय } चिक ।

समिला वी [शमिला, सम्या] युग-कोलक, गाड़ी की बोंसरी में दोनों ओर डाला जाता लकड़ी का लोला (उप पृ १३८; सुपा २५८) ।

समिल्ल देखो समिल्ल । समिल्लइ (पड) ।

समिहा वी [समिध्] काष्ठ, लकड़ी (शंत ११; पउम ११, ७६; पिड ४४०) ।

समी वी [शमी] १ वृक्ष-विशेष, छोंकर का पेड़ (सूत्र १, २, २, १६ टी; उप १०३१ टी; वजा १५०) । २ शिवा, छिमी, फली (पात्र) । खल्लय न [दे] छोंकर की पत्ती, शमी वृक्ष का पत्र-पुट (सूत्र १, २, २, १६ टी; वृह १) ।

समीअ देखो समीव (नाट—मालवि ५) ।

समीकय वि [समीकृत] समान किया हुआ, 'जं किचि अणुं तात तं पि समीकतं' (सूत्र १, ३, २, ८; गउड) ।

समीचीण वि [समीचीन] साधु, सुन्दर, शोभन (नाट—चैत ४७) ।

समीर सक [सम् + ईरय्] प्रेरणा करना । समीरण (आचा १, ८, ८, १७) ।

समीर पुं [समीर] पवन, वायु (पात्र; गउड) ।

समीरण पुं [समीरण] ऊपर देखो (गउड) ।

समील देखो समील । समीलइ (पड) ।

समीव वि [समीप] निकट, पास (पउम ६६, ८; महा) ।

समीह सक [सम + ईह्] चाहता, बाँधा करना । वक. समीहमाण (उप ३२० टी) ।

समीहा वी [समीहा] इच्छा, बाँधा (उप १०३१ टी) ।

समीहित वि [समीहित] इष्ट, वांछित (महा) ।

समीहित देखो समिक्रियअ (वच ३) ।

समुआचार पुं [समुदाचार] समीचीन आचरण (दे २, ६४) ।

समुइअ वि [समुचित] योग्य, उचित (से १३, ६८; महा) ।

समुइअ वि [समुदित] १ परिवृत, 'गुण-समुद्रो' (उच; न २८६) । २ एकवित (विसे २६२४) ।

समुइन्न वि [समुदीर्ण] उदय-प्राप्त (सुपा ६१४) ।

समुइर देखो समुदीर । कर्म. 'जह बुद्धगाण नोहो समुइरइ किनु तत्तणाण' (गच्छ ३, १५) ।

समुकस देखो समुकरिस (उत्त २३, ८८) ।

समुकत्तिय वि [समुकत्तित] काट डाला हुआ (सुर १४, ४५) ।

समुकरिस पुं [समुत्कर्ष] अतिशय उत्कर्ष (उत्त २३, ८८; सुव २३, ८८) ।

समुकस सक [समुत् + कृप्] १ उच्छृष्ट बनाना । २ अक. नवं करना । समुक्सेवा (ठा ३, १—पत्र ११७), समुक्सेति (प्रासू १६५) ।

समुक्किट्ट वि [समुत्कृष्ट] उच्छृष्ट (ठा ३, १—पत्र ११७) ।

समुक्कित्तण न [समुत्कीर्तन] उच्चारण (सुपा १४६) ।

समुक्खअ वि [समुत्खात] उखाड़ा हुआ (गा २७६) ।

समुक्खण सक [समुत् + खन्] उखाड़ना । समुक्खणइ (गा ६८४) । वक. समुक्खणंत (सुपा ५४१) ।

समुक्खणण न [समुत्खनन] उन्मूलन, उत्पादन (कुर १७४) ।

समुक्खत्त वि [समुत्क्षिप्त] उठा कर फेंका हुआ (से ११, ७२) ।

समुक्खिय सक [समुत् + क्षिप्] उठा कर फेंकना । समुक्खियइ (पि ३१६; सण) ।

समुग्ग पुं [समुद्र] १ दिव्या, संपृष्ट (सम ६३; द्रयु; णाय १, १७ ठी; धर्मवि १५;

श्रीप; परण ३६—पत्र ८३७; महा) । २ पत्ति-विशेष (जो २२; ठा ४, ४—पत्र २७१) ।

समुग्गद (श्री) वि [समुद्रत] समुद्रतूत, समुद्रतन (नाट—मालती ११६) ।

समुग्गम पुं [समुद्गम] समुद्रभव (नाट—रत्ना १३) ।

समुग्गिअ वि [दे] प्रतीकित (दे ८, १३) ।

समुग्गिण्ण वि [समुद्गीर्ण] उगामा हुआ, उत्तोलित, ऊपर उठाया हुआ (पउम १५, ७४) ।

समुग्गिर सक [समुद् + गृ] ऊपर उठाना, उगामना । वक. समुग्गिरंत (पउम ६५, ४८) ।

समुग्गिअ वि [समुद्वाटित] खुला हुआ (धर्मवि १५) ।

समुग्ग्याइअ वि [समुद्वातित] विनाशित (प्रासू १६५) ।

समुग्गाय पुं [समुद्घात] कर्म-निर्जरा विशेष, जिस समय आत्मा वेदना, कषाय आदि से परिरणत होता है उस समय वह अपने प्रदेशों को बाहर कर उन प्रदेशों से वेदनीय, कषाय आदि कर्मों के प्रदेशों की जो निर्जरा—विनाश करता है वह; ये समुद्घात सात हैं—वेदना, कषाय, मरण, वैश्रिय, तेजस, आहारक और केवलिक (परण ३६—पत्र ७६३; भग; श्रीप; विसे ३०५०) ।

समुग्गायण न [समुद्घातन] विनाश (विसे ३०५०) ।

समुग्गुट्ट वि [समुद्घोषित] उद्घोषित (सुर ११, २६) ।

समुग्गाय देखो समुग्गाय (दे ३) ।

समुच्चय पुं [समुच्चय] विशिष्ट राशि, ढग, समूह (भाग ८, ६—पत्र ३६५; भवि) ।

समुच्चर सक [समुत् + चर्] उच्चारण करना, बोलना । समुच्चरइ (चिइय ६४१) ।

समुच्चलिअ वि [समुच्चलित] चला हुआ (उच पृ ४८; भवि) ।

समुच्चिण सक [समुत् + चि] इकट्ठा करना, संचय करना । समुच्चिणइ (गा १०४) ।

समुच्चिय वि [समुच्चित] एक क्रिया आदि में घनित (विसे ५७६) ।

समुच्छ सक [समुत् + छिद्] १ उन्मूलन करना, उखाड़ना । २ दूर करना । समुच्छे (सुप्र १, २, २, १३) । भवि. समुच्छिहिदि (सुप्र २, ५, ४) । संक. समुच्छिता (सुप्र २, ५, १०) ।

समुच्छइय वि [समवच्छादित] सतत आच्छादित (पउम ६३, ७) ।

समुच्छणी बी [दे] संमार्जनी, भाहू (दे ८, १७) ।

समुच्छल सक [समुत् + शल्] १ उछलना, ऊपर उठना । २ विस्तोर्ण होना । समुच्छले (गच्छ १, १५) । वक. समुच्छलंत (सुर २, २३६) ।

समुच्छलिअ वि [समुच्छलित] उछला हुआ । २ विस्तोर्ण (गच्छ १, ६; महा) ।

समुच्छारण न [समुत्सारण] दूर करना (अनि ६०) ।

समुच्छिअ वि [दे] १ तोपित, संतुष्ट किया हुआ । २ समारोचित । ३ न. अंजलि-करण, नमन (दे ८, ४६) ।

समुच्छिद (श्री) वि [समुच्छित] अति-उन्नत (पि २८७) ।

समुच्छिन्न वि [समुच्छिन्न] क्षीण, चिनट (ठा ४, १ पत्र—१८७) ।

समुच्छुंगिय वि [समुच्छृङ्गित] दोच पर चढ़ा हुआ (हमीर १५) ।

समुच्छुग वि [समुत्सुक] अति-उत्कण्ठित (सुर २, २१५; ४, १७७) ।

समुच्छेद } पुं [समुच्छेद] सर्वथा विनाश  
समुच्छेय } (ठा ८—पत्र ४२५; राज) ।

वाइ वि [वादिन्] पदार्थ को प्रतिक्षण सर्वथा विनश्यत माननेवाला (ठा ८—पत्र ४२५; राज) ।

समुज्जम सक [समुद् + यम्] प्रयत्न करना । वक. समुज्जमत (पउम १०२, १७६; चिइय १५०) ।

समुज्जम पुं [समुच्चम] १ समीचीन उद्यम । २ वि. समीचीन उद्यमवाला (सिदि २४८) ।

समुज्जल वि [समुज्जल] अत्यन्त उज्ज्वल (गउड; भवि) ।

समुजाय वि [समुद्यात] १ निर्गत (विसे २६०६) । २ ऊँचा गया हुआ (कप्प) ।  
 समुज्जोअ अक [समुद् + युत्] चमकना, प्रकाशना । वक्क. समुज्जोयंत (पउम ११६, १७) ।  
 समुज्जोअ पुं [समुद्द्योत] प्रकाश, दीप्ति (सुपा ४०; महा) ।  
 समुज्जोअय सक [समुद् + द्योतय] प्रकाशित करना । वक्क. समुज्जोयंत (स ३४०) ।  
 समुज्झ सक [सम् + उज्झ] त्याग करना । संक. समुज्झऊण (वे ८७) ।  
 समुट्ठा अक [समुत् + स्था] १ उठना । २ प्रयत्न करना । ३ ग्रहण करना । ४ उत्पन्न होना । संक. समुट्ठिऊण (सण), समुट्ठाए, समुट्ठिऊण (आचा १, २, २, १; १, २, ६, १; सण) ।  
 समुट्ठाइ वि [समुत्थायिन्] सम्यग् यत्न करनेवाला (आचा) ।  
 समुट्ठाइअ देखो समुट्ठिअ (स १२५) ।  
 समुट्ठाण न [समुपस्थान] फिर से वास करना । सुय न [श्रुत] जैन शास्त्र-विशेष (एंदि २०२) ।  
 समुट्ठाण न [समुत्थान] १ सम्यग् उत्थान । २ निमित्त, कारण (राज) । देखो समुत्थाण ।  
 समुट्ठिअ वि [समुत्थित] १ सम्यक् प्रयत्न-शील (सुअ १, १४, २२) । २ उपस्थित । ३ प्राप्त (सुअ १, ३, २, ६) । ४ उठा हुआ, जो खड़ा हुआ हो वह (सुर १, ६६) । ५ अनुष्ठित, विहित (सुअ १, २, २, ३१) । ६ उत्पन्न (आया १, ६—पत्र १५६) । ७ आश्रित (राज) ।  
 समुट्ठिण वि [समुट्ठिण] उड़ा हुआ (वज्जा ६२; मोह ६३) ।  
 समुण्णइय देखो समुत्तइय (राज) ।  
 समुत्त न [संमुक्त] १ गोत्र-विशेष । २ पुंल्लि. उस गोत्र में उत्पन्न; 'समुता (?त्ता)' (ठा ७—पत्र ३६०) । देखो संमुत्त ।  
 समुत्तइय वि [दे] गवित (पिंड ४६५) ।  
 समुत्तर सक [समुत् + तृ] १ पार जाना । २ अक. नीचे उतरना । ३ अग्रतीर्थ

होना । समुत्तरइ (गउड ६४१; १०६६) ।  
 संक. समुत्तरेवि (अप) (भवि) ।  
 समुत्ताराविय वि [समुत्तारित] १ पार पहुँचाया हुआ । २ कूब आदि से बाहर निकाला हुआ (स १०२) ।  
 समुत्तास सक [समुत् + तासय] अति-शय भय उपजाना । समुत्तासेदि (शौ) (नाट—मालती ११६) ।  
 समुत्तिण वि [समवतीर्ण] अग्रतीर्थ (पउम १०६, ४२) ।  
 समुत्तुंग वि [समुत्तुङ्ग] अति ऊँचा (भवि) ।  
 समुत्तुग वि [दे] गवित (गउड) ।  
 समुत्थ वि [समुत्थ] उत्पन्न (स ४८; ठा ४, ४ टी—पत्र २८३; सुर २, २२५; सुपा ४७०) ।  
 समुत्थइउं देखो समुत्थय = समुत् + स्वगय् ।  
 समुत्थण न [समुत्थान] उत्पत्ति (आया १, ६—पत्र १५७) ।  
 समुत्थय सक [समुत् + थयय] आच्छा-दन करना, ढकना । हेक्क. समुत्थइउं (गा ३६४ अ; पि ३०६) ।  
 समुत्थय वि [समवस्तृत] आच्छादित (कुप्र १६२) ।  
 समुत्थय वि [समुच्छलित] उछला हुआ (स ५७८) ।  
 समुत्थाण न [समुत्थान] निमित्त, कारण (विते २८२८) । देखो समुट्ठाण ।  
 समुत्थिय देखो समुट्ठिअ (भवि) ।  
 समुदय पुं [समुदय] १ समुदाय, संहति, समूह (श्रीप; भग; उवर १८६) । २ समुत्पत्ति, अन्वुदय (कुप्र २२) ।  
 समुदाआर } देखो समुआचार (स्वप्न  
 समुदाआर } ४५; नाट—शकु ७७; श्रीप; स ५६५) ।  
 समुदाण न [समुदान] १ मित्रा (श्रीप) । २ मित्रा-समूह (भग) । ३ क्रिया-विशेष, प्रयोग-गृहीत कर्मों को प्रकृति-स्वित्यादि-रूप से व्यवस्थित करनेवाली क्रिया (सुअनि १६६) । ४ समुदाय (आव ४) । °चर वि [°चर]: मित्रा की खोज करनेवाला (पएह २, १—पत्र १००) ।

समुदाग सक [समुदानय] मित्रा के लिए भ्रमण करना । संक. समुदाणेऊण (पएह २, १—पत्र १०१) ।  
 समुदाणिअ देखो सामुदाणिय (श्रीप; भग ७, १—पत्र २६३) ।  
 समुदाणिगा वी [सामुदानिकी] क्रिया-विशेष, समुदान-क्रिया (सुअनि १६८) ।  
 समुदाय पुं [समुदाय] समूह (अणु २७० टी; विते ६२१) ।  
 समुदाहिय वि [समुदाहृत] प्रतिपादित, कथित (उत ३६, २१) ।  
 समुदिअ देखो समुइअ = समुदित (सुअनि १२१ टी; सुर ७, ५६) ।  
 समुदिण देखो समुइण (राज) ।  
 समुदीर सक [समुद् + ईरय] १ प्रेरणा करना । २ कर्मों को खींच कर उदय में लाना, उदीरणा करना । वक्क. समुदी [°दी] रेमाण (आया १, १७—पत्र २२६) । संक. समुदीरिऊण (सम्यक्त्वो ५) ।  
 समुद पुं [समुद्र] १ सागर, जलवि (पाअ; आया १, ८—पत्र १३३; भग; से १, २१; हे २, ८; कप्प; प्रासू ६०) । २ अन्वकवृष्णि का ज्येष्ठ पुत्र (अंत ३) । ३ आठवें बलदेव और वासुदेव के पूर्वजन्म के धर्म-गुह (सम १५३) । ४ बेलनवर नगर का एक राजा (पउम ५४, ३६) । ५ शाण्डिल्य मुनि के शिष्य एक जैन मुनि (एंदि ४६) । ६ वि. मुद्रा-सहित (से १, २१) । °दत्त पुं [°दत्त] १ चौथे वासुदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५३) । २ एक मच्छीमार का नाम (विपा १, ८—पत्र ८२) । °दत्ता वी [°दत्ता] १ हरियेण वासुदेव की एक पत्नी (महा ४४) । २ समुद्रदत्तमच्छीमार की भार्या (विपा १, ८) । °लिक्खा वी [°लिक्खा] द्विन्द्रिय जंतु की एक जाति (पएण १—पत्र ४४) । °विजय पुं [°विजय] १ चौथे चक्रवर्ती राजा का पिता (सम १५२) । २ भगवान् अरिष्टनेमि का पिता (सम १५१; कप्प; अंत) । °सुआ वी [°सुता] लक्ष्मी (समु १५२) । देखो समुद्र ।

समुहणवणीअ न [दे. समुद्रनवनीत] १  
ध्रुव, सुवा । २ चन्द्रमा (दे ८, ५०) ।

समुहय सक [समुद् + द्रावय्] १  
नयंकर उपद्रव करना । २ मार डालना ।  
समुहवे (गच्छ २, ४) ।

समुहहर न [दे] पानीय-गृह. पानी-घर (दे  
८, २१) ।

समुहाम वि [समुहाम] अति उदाम, प्रखर;  
‘धुई समुहामसदेण’ (वेइय ६५०) ।

समुहिस सक [समुद् + दिश्] १ पाठ  
को स्थिर-परिचित करने के लिए उपदेश  
देना । २ व्याख्या करना । ३ प्रतिज्ञा करना ।  
४ आश्रय लेना । ५ अधिकार करना । क्रमं.  
समुहिसइ (उवा), समुहिसिज्जांत (अणु  
३) । संक. समुहिसि (आचा १, ८, २,  
१; २, २, १, ४; ५) । हेक. समुहिसित्तए  
(ठा २, १—पत्र ५६) ।

समुहिस पुं [समुदेश] १ पाठ को स्थिर-  
परिचित करने का उपदेश (अणु ३) । २  
व्याख्या, सूत्र के अर्थ का अख्यापन (वव १) ।  
३ ग्रंथ का एक विभाग, अख्ययन, प्रकरण,  
परिच्छेद (पउम २, १२०) । ४ भोजन;  
‘जत्य समुहिसकाले’ (गच्छ २, ५६) ।

समुहिस वि [सामुदेश] देखो समुहिसिय  
(पिंड २३०) ।

समुहिसण न [समुदेशन] सूत्रों के अर्थ का  
अख्यापन (एहि २०६) ।

समुहिसिय वि [समुदेशिक] १ समुदेश-  
सम्बन्धी । २ विवाह आदि के उपलक्ष्य में  
किये गये जीवन में बचे हुए वे खाद्य पदार्थ  
जिनको सब साधु-संन्यासियों में बाँट देने का  
संकल्प किया गया हो (पिंड २२६) ।

समुदर सक [समुद् + द्] १ मुक्त करना ।  
२ जोएँ मन्दिर आदि को ठीक करना ।  
समुदरइ (प्रागु ५) । वक. समुदरंत (सुपा  
४७०) । संक. समुदररेऊण (सिक्ता ६०) ।  
हेक. समुदरत्तुं (उत्त २५, ८) ।

समुदरण न [समुदरण] १ उदार । २ वि.  
उदार करनेवाला (सण) ।

समुदरिअ वि [समुद् + धृत] उदार-प्राप्त  
(गा ५६३; सण) ।

समुद्वाइअ वि [समुद्वावित] समुत्थित,  
उठा हुआ (स ५६६; ५६७) ।

समुद्वाय अक [समुद् + वाच्] उठना ।  
वक. समुद्वायंत (पएह १, ३—पत्र ४५) ।  
समुद्विअ देखो समुद्वरिअ (गच्छ ३, २६) ।

समुद्धुर वि [समुद् + धुर] दृढ़, मजबूत (उप  
१४२ टी) ।

समुद्धुसिअ वि [समुद्धुपित] पुलकित,  
रोमाञ्जित; ‘षणागमे कयंबकुसुमं व समुद्घु-  
(?दधु)सियं सरोरं’ (कुप्र २१०; स १८०;  
धर्मवि ४८) ।

समुद्र पुं [समुद्र] १ एक देव-विमान (द्वेन्द्र  
१४३) । २. देखो समुद् (हे २, ८०) ।

समुन्नइ वी [समुन्नति] अन्वय (सावं  
८२) ।

समुन्नद्ध वि [समुन्नद्ध] संनद्ध, सज;  
‘जं नमिया सयलनिवा

जिणत्स अचंतवलसमुन्नद्धा ।

तेण विजएण रत्ता

नमित्ति नामं विणिम्मवियं  
(वेइय ६१३) ।

समुन्नय वि [समुन्नत] अति ऊँचा (महा) ।

समुपेह सक [समुत्प्र + ईक्ष्] १ अच्छी  
तरह देखना, निरीक्षण करना । २ पर्यालोचन  
करना, विचार करना । वक. समुपेहमाण  
(सुत्र १, १३, २३) । संक. समुपेहिया,  
समुपेहियाणं (दस ७, ५५; महा) ।

समुपपज्ज अक [सपत् + पद्] उत्पन्न  
होना । समुपपज्जइ (भग; महा) । समुपपज्जिआ  
(कप्प) । भूकां. समुपपज्जित्वा (भग) ।

समुपपण्ण } वि [समुत्पन्न] उत्पन्न (पि  
समुपपन्न } १०२; भग; वसु) ।

समुपपयण न [समुत्पतन] ऊँचा जाना,  
ऊर्ध्व-गमन, उड्डयन (गउड) ।

समुप्पाअअ वि [समुत्पादक] उत्पत्ति-कर्ता  
(गा १८८) ।

समुप्पाड सक [समुत् + पादय्] उत्पन्न  
करना । समुप्पाडेइ (उत्त २६, ७१) ।

समुप्पाय पुं [समुत्पाद] उत्पत्ति, प्रादुर्भाव  
(सुत्र १, १, ३, १०; आचा) ।

समुप्पिजल न [दे] अयश, अपकीर्ति । २  
रज, धूलि (दे ८, ५०) ।

समुप्पित्थ वि [दे] उत्पत्त, भय-भीत (सुर  
१३, ४४) ।

समुप्पेक्ख } समुपेह । वक. समुप्पेक्ख-  
समुपेह } माण, समुप्पेहमाण (राज;  
आचा १, ४, ४, ४) । संक. समुप्पेहं (दस  
७, ३) । देखो समुपेक्ख ।

समुप्फालय वि [समुत्पाटक] उठाकर लाने-  
वाला, ‘पएह जयतिरिसमुप्फालए मंगलतूर’  
(स २२) ।

समुप्फालिय वि [समुत्फालित] आस्फालित  
(भवि) ।

समुप्फुंद सक [समा + क्रम्] आक्रमण  
करना । वक. समुप्फुंदंत (से ४, ४३) ।

समुप्फोडण न [समुत्फोटन] आस्फालन  
(पउम ६, १८०) ।

समुप्पभड वि [समुप्पट] प्रचंड (प्रागु  
१०२) ।

समुप्पभव अक [समुद् + भू] उत्पन्न होना ।  
समुप्पवन्ति (उपयं २५) ।

समुप्पभव पुं [समुद्भव] उत्पत्ति (उव;  
भवि) ।

समुप्पिभय वि [समुप्पित] ऊँचा किया हुआ  
(सुपा ८८; भवि) ।

समुप्पमुय (अप) नीचे देखो (सण) ।

समुप्पभूअ वि [समुद्भूत] उत्पन्न (स  
४७६; सुर २, २३५; सुपा २६५) ।

समुयाण देखो समुदाण = समुदान (विपा  
१, २—पत्र २५; शोध १८४) ।

समुयाण देखो समुदाण = समुदानय् । वक.  
समुयाणित (सुत्र ३, १) ।

समुयाणिअ देखो समुदाणिय (शोध ५१२) ।

समुयाय सक समुदाय (राज) ।

समुल्लव सक [समुत् + लप्] बोलना,  
कहना । समुल्लवइ (सण) । वक. समुल्लवंत  
(सुर २, २६) । कवक. समुल्लविज्जंत (सुर  
२, २१७) ।

समुल्लवण न [समुल्लपन] कथन, उक्ति (से  
१२, ७४) ।

समुल्लविअ वि [समुल्लपित] उक्त, कथित  
(सुर २, १५१; ५, २३८; प्रागु ७) ।

समुद्रस अक [समुन् + लस्] उल्लसित होना, विकसना। समुल्लसइ (नाट—विक्र, ७१)। वक्र. समुल्लसंत (कप्प; सुर २, ८५)।

समुद्रसिय वि [समुल्लसित] उल्लास-प्राप्त (सण)।

समुद्रालिय वि [समुल्लालित] उछाला हुआ (णाय १, १८—पत्र २३७)।

समुद्राव पुं [समुद्राप] आलाप, संभाषण (विवा १, ७—पत्र ७७; महा; णाय १, १६—पत्र १६६)।

समुद्रास पुं [समुद्रास] विकास (गउड)।

समुवइइ वि [समुपविष्ट] बैठा हुआ (उ २८८)।

समुवउत्त वि [समुपयुक्त] उपयोग-युक्त, सावधान (जीवस ३६३)।

समुवगय वि [समुपगत] समीप आया हुआ (वव ४)।

समुवज्जिय वि [समुपार्जित] उपाजित, पैदा किया हुआ (सुपा १००; सण)।

समुवत्थिय वि [समुपस्थित] हाजिर, उपस्थित (उप ४३५)।

समुवयंत देखो समुवे।

समुवविट्ट वि [समुपविष्ट] बैठा हुआ (राय ७५)।

समुवसंपन्न वि [समुपसंवन्न] समीप में समागत (धमं ३)।

समुवहसिअ वि [समुपहसित] जिसका खूब उपहास किया गया हो वह (सण)।

समुवांगय वि [समुपागत] समीप में आगत (णाय १, १६—पत्र १६६; सण)।

समुवे सक [समुपा + इ] १ पास में आना। २ प्राप्त करना। समुवेइ, समुवेति (यति ४२; पि ४६३)। वक्र. समुवयंत (स ३७०)।

समुवेक्ख } सक [समुत्प्र + ईक्ष्] १  
समुवेह } निरीक्षण करना। २ व्यवहार करना, काम में लाना। वक्र. समुवेक्खमाण, समुवेहमाण (णाय १, १—पत्र ११; आचा १, ५, २, ३)।

समुव्वत्त वि [समुद्वृत्त] ऊँचा किया हुआ (से ११, ५१)।

समुव्वत्तिय वि [समुद्वृत्तित] घुमाया हुआ, फिराया हुआ (सुर १३, ४३)।

समुव्वह सक [समुद् + वह्] १ धारण करना। २ ढोना। समुव्वहइ (भवि; सण)। वक्र. समुव्वहंत (से ६, २; नाट—रत्ना ८२)।

समुव्वहण न [समुद्वहन] सम्यग् वहन—ढोना (उव)।

समुव्विग्ग वि [समुद्विग्ग] अत्यन्त उद्वेग-वाला (गा ४६२)।

समुव्वूढ वि [समुद्व्यूढ] १ विवाहित (उप पृ १२७)। २ उत्तानित, ऊँचा किया हुआ (से ११, ६०)।

समुव्वेह वि [समुद्वेह] अत्यन्त कँपाया हुआ, संचालित; 'गयबूहसमायड्डियविसमस-मुव्वेहकमलसंधाय' (पउम ६४, ५२)।

समुसरण देखो समोसरण (पिड २)।

समुस्सय पुं [समुच्छय] १ ऊँचाई, ऊर्वता (सूत्र २, ४, ७)। २ उत्तति, उत्तमता (सूत्र १, १५, ७)। ३ कर्मोंका उपचय (आचा)। ४ संघात, समूह, राशि, ढग (दस ६, १७; ग्रणु २०)।

समुस्सविय वि [समुच्छयित] ऊँचा किया हुआ (पउम ४०, ६)।

समुस्ससिय वि [समुच्छवसित] १ उल्लास-प्राप्त, 'समुस्ससियरोमकूवा' (कप्प)। २ उच्छ्वास-प्राप्त (पउम ६४, ३८)। देखो समुस्ससिअ।

समुस्सिअ वि [समुच्छ्रित] ऊर्व-स्थित, ऊँचा रहा हुआ (सूत्र १, ५, १, १५; पि ६४)।

समुस्सिणा सक [समुत् + श्रु] १ निर्माण करना, बनाना। २ संस्कार करना, संवारना, जीर्ण मन्दिर आदि को ठीक करना। समुस्सि-णासि, समुस्सिणासि (आचा १, ८, २, १; २)।

समुस्सुग } देखो समुसुअ (द ४८; महा)।  
समुस्सुय }

समुह देखो समूह (हे १, २६, गा ६५६; कुमा; हेका ५१; महा; पाअ)।

समुहय वि [समुद्धत] समुदधात-प्राप्त (श्रावक ६८)।

समुहि देखो स-मुहि = श्व-मुलि।

समूसण न [समूपण] त्रिकटुक—सूँठ, पीपल तथा मरिच या मिरचा (उत्तनि ३)।

समूसवय देखो समुस्सविय (परह १, ३—पत्र ४५)।

समूसस अक [समुत् + श्वस्] १ ऊँचा जाना। २ उल्लसित होना। ३ ऊर्व श्वास लेना। समूससंति (पि १४३)। वक्र. समू-ससंत, समूससमाण (गा ६०४; गउड; से ११, १३२)।

समूससिअ न [समुच्छवसित] १ निःश्वास (से ११, ५६)। २ देखो समुस्ससिय (णाय १, १—पत्र १३; कप्प; गउड)।

समूसिअ देखो समुस्सिअ (भग; श्रौप; सूत्र १, ५, १, ११ वे; परह १, ३—पत्र ४५)।

समूसुअ वि [समुत्सुक] अति उल्लंठित (सुपा ४७७; नाट—विक्र ६२)।

समूह पुंन [समूह] समुदाय, राशि, संघात; 'मंतीहि य उवसमियं भुयंगमाणं समूहं व' (पउम १०६, १५; श्रौप ४०७; गउड; भवि)।

समूह (अप) देखो समुह (भवि)।

समे सक [समा + इ] १ आगमन करना, आना, संमुख आना। २ जानना। ३ प्राप्त करना। ४ अक. संहृत होना, इकट्ठा होना। समेइ, समेति (भवि; विसे २२६६)। वक्र. समेमाण (आचा १, ८, १, २)। संक्र. समिच्च, समेच्च (सूत्र १, १२, ११; पि ५६१; आचा १, ६, १, १६; पंच ३, ४५)।

समेअ } वि [समेत] १ समागत, समायात;  
समेत } 'सीलवइं परिणोउं गिहं समेओ महिड्डीए' (श्रा १६)। २ युक्त, सहित; 'तेहि समेतो ग्रहयं वयामि जा कित्तियं पि भूभागं' (सुर १, १६६; ३, ८८; सुपा २५६; महा)।

समेर देखो स-मेर = स-मर्याद।

समोअर अक [समय + तृ] १ समाना, समावेश होना, अन्तर्भाव होना। २ नीचे

उत्तरना । ३ जन्म-ग्रहण करना । समोत्तरद्व  
(अणु २४६; उव; विसे २४५), समोत्तरति  
सूत्र २, २, ७६; अणु ५६) ।

समोत्तर पुं [समवतार] अन्तर्भाव (अणु  
२४६) ।

समोत्तर वि [समवतीर्ण] नीचे उतरा  
हुया (सुर ७, १३४) ।

समोत्तर वि [समवगाड] सम्यग् प्रवगाड  
(श्रीप) ।

समोत्तर वि [समवच्छादित]   
आच्छादित, अतिशय ढका हुआ (सुर १०,  
१५७) ।

समोत्तर सक [समवचनम्] सम्यग्  
नमना—नीचा होना । वक्र. समोत्तरमंत  
(श्रीप; सुर ६, २३७) ।

समोत्तर वि [समवचन] अति नमा हुआ  
(गा २८२) ।

समोत्तर वि [समवस्थागत] आच्छादित,  
(से ६, ८४) ।

समोत्तर वि [समवस्तु] ऊपर देखो (उप  
७७३ टी) ।

समोत्तर सक [समय + स्तु] ? आच्छादन  
करना, ढकना । २ आक्रमण करना । वक्र.  
समोत्तरंत (आया १, १—पत्र २५;  
पद्य ३, ७८) ।

समोत्तर पुं [समवतार] अन्तर्भाव, समावेश  
(विसे ६५६; अणु) ।

समोत्तरणा स्त्री [समवतारणा] अन्तर्भाव  
(विसे ६७३) ।

समोत्तरिय वि [समवतारित] अन्तर्भावित,  
समावेशित (विसे ६५६) ।

समोत्तर वि [दि] समुद्दिष्ट (गडड) ।

समोत्तर वि [समवसृण] रोगो, रोग-ग्रस्त  
(से ३, ४७) ।

समोत्तर सक [समवपत्न] ? सामने  
आना । २ नीचे उतरना । वक्र. समोत्तरवत,  
समोत्तरमाण (से १३६; ३३०) ।

समोत्तर वि [समवपतित] नीचे उतरा  
हुया (आया १, १६—पत्र २१३) ।

समोत्तर वि [समवस्तु] समागत,  
समोत्तर पवारा हुआ (सम्भक्त. १२०)

वि ६७; नग; आया १, १—पत्र ३६;  
श्रीप; सुपा ११) ।

समोत्तर सक [समव + स्तु] ? पवारना,  
आपदन करना । २ नीचे गिरना । समोत्तरवा  
(श्रीप; वि २३५) । वक्र. समोत्तरि<sup>०</sup> (श्रीप) ।  
वक्र. समोत्तरंत (से २, ३६) ।

समोत्तर सक [समव + स्तु] ? पीछे हटना ।  
२ पलायन करना । समोत्तर (काप्र १६२),  
समोत्तर (हे २, १६७) । वक्र. समोत्तरंत  
(गा १६२) ।

समोत्तरण पुं [समवसरण] ? एकत्र  
मिलन, मेलना, मिला (सूत्रनि ११७; राय  
१३६) । २ समुदाय, समवाय, समूह  
'समोत्तरण निचय उच्यते च एव जुम्मे य  
रासी य' (श्रीप ४०७) । ३ साधु-समुदाय,  
साधु-समूह (पिड २८५; २८८ टी) । ४

जहाँ पर उत्सव यादि के प्रसंग में अनेक साधु  
लोग इकट्ठे होते हैं वह स्थान (सन २१) ।

५ परतीर्थियों का समुदाय, जेनेतर दार्शनिकों  
का समवाय (सूत्र १, १३, १) । ६ धर्म-  
विचार, आगम-विचार (सूत्र २, २, ८१;  
८२) । ७ 'सूत्रकृताङ्ग सूत्र' के प्रथम श्रुतस्कोप

का बारहवाँ अध्यायन (सूत्रनि १२०) । ८  
पवारना, आपदन (उवा; श्रीप; विपा १,  
७—पत्र ७२) । ९ तीर्थकर-देव की परंपरा ।

१० जहाँ पर जिन-भगवान् उपदेश देते हैं  
वह स्थान (आवम; पंचा २, १७; टी ४३) ।

११ पुं [समवस्तु] तप-विशेष (पत्र  
२७१) ।

समोत्तरि वि [समवस्तु] ? पीछे हटा  
हुया (गा ६५६; पद्य १२, ६३) । २

पलायित (से १०, ५) ।

समोत्तरि वि [समवस्तु] समायात,  
समागत (से ७, ४१; उवा) ।

समोत्तर सक [दि] टुकड़ा टुकड़ा करना ।  
समोत्तरति (सूत्र १, ५, २, ८) ।

समोत्तरि सक [समव + सद्] शीण होना,  
नाश पाना, नष्ट होना । वक्र. समोत्तरिजंत  
(से ८, ७) ।

समोत्तरि पुं [दि] ? प्रातिवर्तिक, पड़ोसी  
(दि ८, ४६; पात्र) । २ प्रदीप । ३ वि,  
वध्य, वध-योग्य (दि ८, ४६) ।

समोत्तर सक [समुद् + हन्] समुदाय  
करना, आत्म-प्रदीपों को बाहर निकाल कर  
उगने का-निर्देश करना । समोत्तरद्व  
समोत्तरति (कप; श्रीप; वि ४६६) । मंत्र.  
समोत्तरिता (भग; कप; श्रीप) ।

समोत्तर वि [समुद् + हन्] विगने समुदाय  
किया हो वह (आ २, २—पत्र ६१) ।

समोत्तर वि [समवस्तु] आघात-आघात (सुर  
७, २८) ।

सम्व सक [श्रम्] ? खेद पाना । २ धरना ।  
सम्भ (उत १, ३७) ।

सम्व सक [श्रम्] शान्त होना, ठण्डा  
होना । सम्भ (आया १५५) ।

सम्व न [शर्मन्] सुख (हे १, ३२; हुमा) ।

सम्व वि [सम्वच्छ] ? सत्य, सत्ता (सूत्र  
१, ८, २३; कप; सम्भ ८७; वस्तु) । २

अविपरीत, अविरोध (डा १—पत्र २७;  
३, ४—पत्र १५६) । ३ प्रशंसनीय,  
आश्चर्यनीय (कप ४, १४; पत्र ६) । ४

शोभन, सुन्दर । ५ संगत, उचित, व्याजवी  
(सूत्र २, ४, ३) । ६ न. सम्यग्-दर्शन

(कम्म ४, ६; ४१) । ७ न [त्व] ?  
समकित, सम्यग्-दर्शन, सत्य तत्त्व पर

श्रद्धा (उवा; उव; पत्र ६३; जी ५०; कम्म  
४, १४) । ८ सत्य, परमार्थ; 'सम्वत्तद्विणी'  
(आया; सूत्र १, ८, २३) । ९ 'द्विष्ट्य,  
'द्विष्ट्य वि [द्विष्टिक] सत्य तत्त्व पर श्रद्धा

रखनेवाला (डा १—पत्र २७; २, २—पत्र  
५६) । १० 'दंसण न [दंसण] सत्य तत्त्व पर

श्रद्धा (डा १०—पत्र ५०३) । ११ 'द्विष्टि वि  
[द्विष्टि] देखो 'द्विष्ट्य (सूत्रनि १२१) ।

'ज्ञान न [ज्ञान] सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान  
(सम्भ ८७; वस्तु) । १२ 'सुय न [सुय] ?  
सत्य शास्त्र । २ सत्य शास्त्र-ज्ञान (एदि) ।

'मिच्छद्विष्टि वि [मिच्छाद्विष्टि] मिथ  
द्विष्टिवाला, सत्य और असत्य तत्त्व पर श्रद्धा

रखनेवाला (सम २६; डा १—पत्र २८) ।

'वाय पुं [वाय] ? अविरोध वाद । २  
द्विष्टिवाद, बारहवाँ जैन ग्रंथ-ग्रंथ (डा १०—  
पत्र ४६१) । ३ सामाजिक, संवय-विशेष;

'सामाज्यं समइयं सन्मावायो समास संवेर्वा'  
(आय १) ।

सम्मद् देखो सम्मुद् = सम्मति, स्वमति (उत्त २८, १७; आचा)।

सम्मद्ग देखो सामाद्ग्य (संबोध ४५)।

सम्मं अ [सम्यग्] अच्यी तरह (आचा; सूत्र १, १४, ११; महा)।

सम्मद् छी [सम्मति] १ संगत मति। २ सुन्दर बुद्धि, विशद बुद्धि (उत्त २८, १७; सुख २८, १७; कल्प; आचा)। ३ पुं. एक कुलकर पुरुष (पउम ३, ५२)।

सम्मद् छी [स्वमति] स्वकीय बुद्धि (आचा)।  
सम्हरिअ वि [संस्मृत] अच्यी तरह याद किया हुआ (अच्यु ३५)।

सय अक [शी, स्वप्] सोना, शयन करना। सयइ, सए, सएज्जा (कल्प; आचा १, ७, ८, १३; २, २, ३, २५; २६), सयंति (भग १३, ६—पत्र १७)। वहु. सयमाण (आचा २, २, ३, २६)। हेऊ. सइत्तए (पि ५७८)। क. देखो सयणिज्ज, सयणीअ।

सय अक [स्वद्] पचना; जीएणं होना, माफिक आना। सयइ (आचा २, १, ११, १)।

सय अक [स्] भरना, टपकना। सयइ (सूत्र २, २, ५६)।

सय सक [श्रि] सेवा करना। सयंति (भग १३, ६—पत्र ६१७)।

सय देखो स = सत्; 'वंदणिज्जो सयाणं' (स ६६५)।

सय देखो स = स्व (सूत्र १, १, २, २३; णाया १, १४—पत्र १६०; आचा; उवा; स्वप्न १६)।

सय देखो सग = सप्तन्। हत्तरि छी [सप्तति] सतहत्तर, ७७ (आ २८)।

सय अ [सदा] हमेशा, निरन्तर; 'असबुडो सय करेइ कंदर्प' (उव)। काल न [काल] हमेशा, निरन्तर (सुपा ८५)।

सय पुंन [शत] १ संख्या-विशेष, सौ, १००। २ सौ की संख्यावाला (उवा; उव; गा १०१; जी २६; दं ६)। ३ बहुत, भूरि, अनल्प संख्यावाला (णाया १, १—पत्र ६५)। ४ अध्ययन, ग्रंथ-प्रकरण, ग्रन्थांश-विशेष; 'विवाहपन्नतीए एकासीति महाबुम्मसयां

पन्नत्ता' (सम ८८)। °कंत न [°कान्त] १ रत्न-विशेष। २ वि. शतकान्त रत्नों से बना हुआ (देवेन्द्र २६८)। °कित्ति पुं [°कीर्ति] एक मावी जिन-देव (पत्र ४६); 'सत्त (१?) कित्ती' (सम १५३)। °गुणिअ वि [गुणित] सौगुना (आ १०; सुर ३, २३२)। °ग्घी छी [°दनी] १ यन्त्र-विशेष, पापाण-शिला-विशेष (सम १३७; अंत; श्रौप)। २ चक्री; जांता (दे ८, ५, टी)। °ज्जल न [°ज्वल] १ वरुण का विमान (देवेन्द्र २७०)। देखो सयंजल। २ रत्न की एक जाति। ३ वि. शतज्वल-रत्नों का बना हुआ (देवेन्द्र २६६)। ४ पुंन. विद्युत्प्रभ नामक वज्रस्कार पर्वत का एक शिखर (इक)। °द्वार न [द्वार] एक नगर (अंत)। °धणु पुं [°धनुप्] १ ऐरवत वर्ष में होनेवाला एक कुलकर पुरुष (सम १५३)। २ भारत वर्ष में होनेवाला दसवाँ कुलकर पुरुष (ठा १०—पत्र ५१८)। °पई छी [°पई] सुद्र जन्तु की एक जाति (आ २३)। °पत्त देखो °वत्त (णाया १, १—पत्र ३८)। °पाग न [°पाक] एक सौ श्रोत्रविशेषों से बनता एक तरह का उत्तम तेल (णाया १, १—पत्र १६; ठा ३, १—पत्र ११७)। °पुप्फा छी [°पुष्पा] वनस्पति-विशेष, सौया का गाछ (पएण १—पत्र ३४; उत्तंति ३)। °पोर न [°पर्वन्] इक्षु, ऊख (पव १७४ टी)। °वाहु पुं [°वाहु] एक राजपि (पउम १०, ७४)। भिसया, भिसा छी [°भिपज्] नक्षत्र-विशेष (इक; पउम २०, ३८)। °यम वि [°तम] सौवा, १०० वां (पउम १००, ६४)। °रह पुं [°रथ] एक कुलकर पुरुष (सम १५०)। °रिसह पुं [°रुपभ] अहोरात्र का तेईसवाँ मुहूर्त (सुज १०, १३)। °वई देखो °पई (दे २, ६१)। °वत्त न [°पत्र] १ पत्र, कमल (पात्र)। २ सौ पत्तीवाला कमल, पद्म-विशेष (सुपा ४६)। ३ पुं. पत्ति-विशेष, जिसका दक्षिण दिशा में बोलना अपशुक्न माना जाता है (पउम ७, १७)। °सहस्स पुंन [°सहस्] संख्या-विशेष, लाख (सम २; भग; सुर ३, २१; प्रासू ६; १३४)। °सहस्सइम वि

[°सहस्सतम] लाखवां (णाया १, ८—पत्र १३१)। °साहस्स वि [°साहस्] १ लाख-संख्या का परिमाणवाला (णाया १, १—पत्र ३७)। २ लाख रूपया जिसका मूल्य हो वह (पव १११; दसनि ३, १३)। °साहस्सि वि [°सहस्सिन्] लक्षपति, लक्षाधीश (उप पृ ३१५)। °साहस्सिय वि [°साहस्सिक] देखो °साहस्स (स ३६६; राज)। °साहस्सी छी [°सहस्सी] लक्ष, लाख (पि ४४७; ४४८)। °सिद्धर वि [°शर्कर] शत खंडवाला, सौ टुकड़ावाला (सुर ४, २२; १५३)। °हा अ [°धा] सौ प्रकार से, सौ टुकड़ा हो ऐसा (सुर १४, २४२)। °हुत्तं अ [°हृत्स्वस्] सौ बार (हे २, १५८; प्राप्र; पड्)। °उ पुं [°युप्] १ एक कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०)। २ मदिरा-विशेष (कुप्र १६०; राज)। °णिअ, °णीअ पुं [°नीक] एक राजा का नाम (विपा १, ५—पत्र ६०; अंत; ती १०)।

सयं देखो सयं = स्वयं; 'सयपालणा य एत्थं' (पंचा ५, ३६)।

सयं देखो सइं = सकृत् (वि ८८)।

सयं अ [स्वयम्] आप, खुद, निज (आचा १, ६, १, ६; सुर २, १८७; भग; प्रासू ७; अमि ५६; कुमा)। °कड वि [°कृत] खुद किया हुआ (भग)। °गाह पुं [°ग्राह] १ जवरदस्ती ग्रहण करना। २ विवाह-विशेष (से १, ३४)। ३ वि. स्वयं ग्रहण करने-वाला (वव १)। °पभ पुं [°प्रभ] १ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)। २ भारतवर्ष में अतीत उत्सर्पिणी काल में उत्पन्न चौथा कुलकर पुरुष (सम १५०)। ३ आगामी उत्सर्पिणी-काल में भारत में होनेवाला चौथा कुलकर पुरुष (सम १५३)। ४ आगामी उत्सर्पिणी काल में इस भारतवर्ष में होनेवाले चौथे जिन-देव (सम १५३)। ५ एक जैन मुनि जो भगवान् संबुनाय के पूर्व-जन्म में गुह वे (पउम २०, १७)। ६ एक हार का नाम (पउम ३६, ४)। ७ मेरु पर्वत (सुज ५)। ८ नन्दीधर द्वीप के मध्य में पश्चिम-दिशा-स्थित एक अंजन-गिरि (पव



२६२ टी) । २ न. एक नगर का नाम, राजा रावण के लिए कुवेर द्वारा बनाया हुआ एक नगर (पउम ७, १४६) । १० वि. आप से प्रकाश करनेवाला (पउम ३६, ४) । °पभा स्त्री [°प्रभा] ? प्रथम वासुदेव की पटरानी (पउम २०, १२६) । २ एक रानी का नाम (उप १०३१ टी) । °पह देखो °पभ (पउम ८, २२) । °बुद्ध वि [°बुद्ध] अन्य के उपदेश के बिना ही जिसकी तत्त्व-ज्ञान हुआ हो वह (नव ४३) । °भु पुं [°भु] ? ब्रह्मा (पएह १, २—पत्र २८) । २ भारत में उत्पन्न तीसरा वासुदेव (सम ६४) । ३ सतरहवें जिनदेव का गणवर—मुख्य शिष्य (सम १५२) । ४ जीव, आत्मा, चेतन (भग २०, २—पत्र ७७६) । ५ एक महा-सागर, स्वयंभूरमण समुद्र; 'जहा सयंभू उदहीण सेट्टे' (सूय १, ६, २०) । ६ पुंन. एक देव-विमान (सम १२) । देखो °भू । °भुगेहिणी स्त्री [°भुगेहिनी] सरस्वती देवी (अच्यु २) । °भुरमण पुं [°भुरमण] देखो °भूरमण (पएह २, ४—पत्र १३०; पउम १०२, ६१; स १०७; सुज १६; जी ३, २—पत्र ३६७; देवेन्द्र २५५) । °भुव, °भू पुं [°भू] ? अनादि-सिद्ध सर्वज्ञ; 'जयजय नाह सयंभुव' (स ६४७; उवर १२२) । २ ब्रह्मा (पात्र; पउम २८, ४८; ती ७; से १४, १७) । ३ तीसरा वासुदेव (पउम ५, १५५) । ४ रावण का एक योद्धा (पउम ५६, २७) । ५ भगवान् विमलनाथ का प्रथम श्रावक (विचार ३७८) । ६ कुच, स्तन (प्राक् ४०) । देखो °भू । °भूरमण पुं [°भूरमण] ? समुद्र-विशेष । २ द्वीप-विशेष (जीव ३, २—पत्र २६७; ३७०) । ३ एक देव-विमान (सम १२) । °भूरमणभद्र पुं [°भूरमणभद्र] स्वयंभूरमण द्वीप का एक अविष्ठाता देव (जीव ३, २—पत्र ३६७) । °भूरमणमहाभद्र पुं [°भूरमणमहाभद्र] वही अर्थ (जीव ३, २) । °भूरमणमहावर पुं [°भूरमणमहावर] स्वयंभूरमण-समुद्र का एक अविष्ठायक देव (जीव ३, २—पत्र ३६७) । °भूरमणवर पुं [°भूरमणवर] वही अनन्तर उक्त अर्थ (जीव ३, २) । °वर पुं [°वर] कन्या का

स्वेच्छानुसार वरण, एक प्रकार का विवाह जिसमें कन्या निमन्त्रित विवाहायियों में से अपनी इच्छानुसार अपना पति वरण कर ले (उव; गउड; अमि ३१) । °वरी स्त्री [°वरी] अपनी इच्छानुसार वरण करनेवाली (पउम १०६, १७) । °संबुद्ध वि [°संबुद्ध] स्वयं जात-तत्त्व (सम १) ।

सयंजय पुं [शतञ्जय] पक्ष का तेरहवाँ दिवस (सुज १०, १४) ।

सयंजल पुं [शतञ्जल] ? एक कुलकर-पुरुष (सम १५०) । २ वरण लोकपाल का विमान (भग ३, ७—पत्र १६८) । देखो सय-जल । ३ ऐरवत वर्ष में उत्पन्न चौदहवें जिनदेव (पव ७) ।

सयंभरी स्त्री [शाकम्भरी] देश-विशेष (मुणि १०८७३) ।

सयग देखो सयय (पव ४६; कम्म ५, १००) । सयग्री स्त्री [दे] जाती, चक्की, पीसने का यन्त्र (दे ८, ५) ।

सयड पुंन [शकट] ? गाड़ी (पउम २६, २१); 'सयडो गंती' (पात्र) । २ न. नगर-विशेष (पउम ५, २७) । °मुह न [°मुख] उद्यान-विशेष, जहाँ भगवान् ऋषभदेव को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था (पउम ४, १६) । सयडाल देखो सगडाल (कुप्र ४४८) ।

सयण देखो स-यण = स्व-जन ।

सयण न [सदृज] ? गृह, घर (गउड; सुपा ३६६) । २ अंग-ग्लानि, शरीर-पीड़ा (राज) ।

सयण न [शयन] ? वसति, स्थान (आचा १, ६, १, ६) । २ शय्या, विछौना (गउड; कुमा; गा ३३) । ३ निद्रा (कुमा ८, १७) । ४ स्नाप, सोना (पएह २, ४; सुपा ३६६) ।

सयणिज न [शयनीज] शय्या, विछौना (गाया १, १४—पत्र १६०; गउड) ।

सयणिजग देखो स-यण = स्व-जन; 'सेहस्त सयणिजजा आगवा' (शोधभा ३० टी) ।

सयणीअ देखो सयणिज (स्वप्न ६२; ६८; सुर ३, ६०) ।

सयण्य देखो सकण्य (महा) ।

सयण्ह देखो स-यण्ह = स-तुष्ण ।

सयत्त वि [दे] मुदित, हर्षित (दे ८, ५) ।

सयत्त देखो सकत्त (सुपा २८२) ।

सयय वि [सतत] निरन्तर (उव; सुर १, १३; महा) ।

सयय पुं [शतक] ? वर्तमान अवसर्पिणी-काल में उत्पन्न ऐरवत वर्ष के एक जिन-देव (सम १५३) । २ आगामी उत्सर्पिणी में भारतवर्ष में होनेवाले एक जिनदेव के पूर्वजन्म नाम, जो भगवान् महावीर का श्रावक था (ठा ६—पत्र ४५५) । ३ न. सौ का समुदाय (गा ७०६; अच्यु १०१) ।

सयय देखो सायय = सागर (विसे ११८७) ।

सययह देखो सयराह (स ७६२) ।

सयरा देखो सकरा; 'सयरं दहि च दूढं तूरंतो कुण्णु साहीणं' (पउम ११५, ८) ।

सयराह ? अ [दे] ? शीघ्र, जल्दी (दे ८, सयराहा ? ? ?; कुमा; गउड; चेइय ६१०) । २ युगत्, एक साथ (विसे ६५६) । ३ अकस्मात् (श्रौप) ।

सयरि देखो सत्त-रि = सप्तति (पि २४५; ४४६) ।

सयरी स्त्री [शतावरी] वृद्ध-विशेष; शतावर का गाछ (पएह १—पत्र ३१) ।

सयल न [शकल] खंड, टुकड़ा (दे १, २८) ।

सयल वि [सकल] ? संपूर्ण, पूरा । २ सब, समग्र (गा ५३०; कुमा; सुपा १६७; दे ३६; जी १४; प्रासू १०८; १६४) । °चंद पुं [°चन्द्र] 'श्रुतास्वाद' का कर्ता एक जैन मुनि (आ १६६) । °भूसण पुं [°भूपण] एक केवलज्ञानी मुनि (पउम १०२, ५७) । °देस पुं [°देश] सर्वापेक्षी वाक्य, प्रमाण-वाक्य (अज्ज ६२) ।

सयालि पुं [शकलिन्] मोन, मछली (दे ८, ११) ।

सयहत्थिय वि [सौवहस्तिक] ? स्व-हस्त से उत्पन्न । २ न. शब्द-विशेष; 'महकालोकि नरिदो मिल्हइ सयहत्थियं सहत्थेणं' (तिरि ४५१; ४५२) ।

सयाचार देखो स-याचार = सदाचार ।

सयाचार देखो सआ-चार = सदा-चार ।

सयाण देखो स-याण = स-ज्ञान ।

सयालि पुं [शतालि] भारतवर्ष के भावी

अठारहवें जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम (पव ४६; सम १५४) । देखो भयालि ।

सयालु वि [शयालु] सोने की आदतवाला, आलसी (कुम) ।

सयावरी स्त्री [सदावरी] श्रोत्रिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १३६; सुख ३६, १३६) ।

सयावरी देखो सयरी = शतावरी (राज) ।

सयास देखो सगास = सकारा (काल; अभि १२५; नाट—मृच्छ ५२) ।

सयासव वि [शताश्रव, सदाश्रव] सुक्ष्म छिद्रवाला (भग) ।

सय्यं देखो सज्जं = सद्यः; 'सय्यंभ्रवृत्ति सय्यं भ्रवोयहीपारगो जयो तेण' (धर्मवि ३८) ।

सय्यंभव देखो सज्जंभव (धर्मवि ३८) ।

सय्ह देखो सज्ज = सद्य (हे २, १२४; पड्) ।

सर सक [सृ] १ सरना खिसकना । २ श्रवत्वन्वन करना, आश्रय लेना । ३ अनुसरण करना । सरइ (हे ४, २३४), सरैज्जा (उपपं २५) । क. सरणीअ (चउ २७), सरैअव्व (सुपा ४१४) ।

सर सक [सृ] याद करना । सरइ (हे ४, ७४; युव १२; प्राप्र) । व. सरंत (सुपा ५६४), सरमाण (णाय १, ६—पत्र १६५; पउम ८, १६४; सुपा ३३६) । हे. सरि-त्तए (पि ५७८) । क. सरणीअ, सरैअव्व, सरियव्व (चउ २७; धम्मो २०; सुपा ३०७) । प्रयो. सरयति (सूत्र १, ५, १, १६) ।

सर सक [स्वर] आवाज करना । सरइ, सरति (विसे ४६२) ।

सर पुंन [शर] १ बाण; 'मज्जे सराणि वरि-सयति' (णाय १, १४—पत्र १६१; कुमा; सुर १, ६४; स्वप्न ५५) । २ तृण-विशेष; 'सो सरवणे मिलोणो रहिओ तस्सिक्खव्व पच्छन्नो' (धर्मवि ६२; पण १—पत्र ३३; कुप्र १०) । ३ छन्द-विशेष । ४ पांच की संख्या (पिग) । ५ पण्णी स्त्री [पणी] तृण-विशेष, = मृज्ज का घास (राज) । ६ पत्त न [पत्र] अन्न-विशेष (विसे ५१३) । ७ पाय न [पात]

धनुप (सूत्र १, ४, २, १३) । १ सण पुंन [सण] धनुप (विपा १, २—पत्र २४; पात्र; श्रौप) । २ सणपट्टी, सणवट्टिया स्त्री [सणपट्टी, सणपट्टिका] १ धनुषादि, धनुर्वेद । २ धनुष खींचने के समय हाथ की रखा के लिए बांधा जाता-चमपट्ट—चमड़े का पट्टा (विपा १, २—पत्र २४; श्रौप) । ३ सरि न [शरि] बाण-युद्ध (सिरि १०३२) ।

सर पुं [स्मर] कामदेव (कुमा; से ६, ४३) ।

सर वि [सर] गमन-कर्ता (वस ६, ३, ६) ।

सर पुं [स्वर] १ वर्ण-विशेष, 'अ' से 'ओ' तक के अक्षर (पणह २, २; विसे ४६१) ।

२ गीत आदि की ध्वनि; आवाज, नाद (सुपा ५६; कुमा) । ३ स्वर के अनुरूप फलाफल को बतानेवाला शास्त्र (सम ४६) ।

सर पुंन [सरस्] तड़ाग, तालाव (से ३, ६; उवा; कप्प; कुमा; सुपा ३१६) । ५ पंति स्त्री [पङ्क्ति] तड़ाग-पद्धति (ठा २, ४—पत्र ८६) । ६ रुह न [रुह] कमल, पद्म (प्राप्र; हे १, १५६; कुमा) । ७ सरपंतिया स्त्री [सरःपङ्क्ति] श्रेणि-बद्ध रहे हुए अनेक तालाव (पणह २, ५—पत्र १५०) ।

सर देखो सरय = शरद् (गा ७१२) । १ दिट्ठु पुं [इट्ठु] शरद् ऋतु का चन्द्र (सुर २, ७०; १६, २४६) ।

सरऊ स्त्री [सरयू] नदी-विशेष (ठा ५, १—पत्र ३०८; ती ११; कस) ।

सरंग (अप) पुं [सारङ्ग] छन्द-विशेष (पिग) ।

सरंघ पुं [शरन्घ] हाथ से चलनेवाले सर्प की एक जाति (पणह १, १—पत्र ८) ।

सरक्ख सक [सं + रक्ष्] अच्छी तरह रक्षण करना । सरक्खए (सूत्र १, १, ४, ११ टि) ।

सरक्ख वि [सरजस्क, सरक्ष] १ शैव-धर्मी, शिव-भक्त, भौत, शैव (श्रौष २१८; विसे १०४०; उप ६७७) । २ वि. रजो-युक्त (श्राव ४) ।

सरक्ख पुंन [सदरजस] १ घृति, रज; 'सदरक्खेहि पाएहि' (वस ५, १, ७) । २ भस्म (पिंड ३७; श्रौष ३५६) ।

सरग देखो सरय = शरक (णाय १, १८—पत्र २४१) ।

सरग वि [शारक] शर-तृण से बना हुआ (शूषं आदि) (आचा २, १, ११, ३) ।

सरगिगिका (अप) स्त्री [सारङ्गिका] छन्द-विशेष (पिग) ।

सरड पुं [सरट] कृकलास, गिरगिट (णाय १, ८—पत्र १३३; श्रौष ३२३; पुष्प २६७; दे ८, ११; उप पृ २६८; सुपा १७७) ।

सरड्डु न [शलाट्टु, कं] वह फल जिसमें सरड्डुअ श्रस्त्रि—गुठली न बँधी हो, कोमल फल (पिंड ४५; आचा २, १, ८, ६; पि ८२; २५६) ।

सरण पुंन [शरण] १ त्राण, रक्षा (आचा; सम १; प्रासू १५६; कुमा) । २ त्राण-स्थान (आचा कुमा २, ४५) । ३ गृह, आश्रय, स्थान; 'निवायसरणप्पईवमिव चित्तं' (संघोष ५१) । ४ दय वि [दय] त्राण-कर्ता (भग; पडि) । ५ गय वि [गत] शरणापन्न (प्रासू ५) ।

सरण न [स्मरण] स्मृति, याद (श्रौष ८; विसे ५१८; महा; उप ५६२; श्रौप; वि ६) ।

सरण न [स्वरण] आवाज करना, ध्वनि करना (विसे ४६१) ।

सरण न [सरण] गमन (राज) ।

सरणि पुंस्त्री [सरणि] १ मार्ग, रास्ता (पात्र; सुपा २; कुप्र २२); 'सरलो सरणी समगं कहियो' (सार्ध ७५) । २ आलवाल, क्यारी (गडड) ।

सरण्य वि [शरण्य] शरण-योग्य, त्राण के लिए आश्रयणीय (सम १५३; पणह १, ४—पत्र ७२; सुपा २६१; अन्नु १५; संघोष ४८) ।

सरत्ति अ [दि] शीघ्र, जल्दी, सहसा (दे ८, २) ।

सरद देखो सरय = शरत् (प्राप्र) ।

सरन्न देखो सरण्य (सुपा १८३) ।

सरभ देखो सरह = शरण (भग; णाय १, १—पत्र ६५; पणह १, १—पत्र ७; गा ७४२; पिग) ।

सरभेअ वि [दे] स्तुत, वाद किया हुआ (दि ८, १३)।

सरसय पुं.व. [शर्मक] देश-विशेष (पठम ६८, ६५)।

सरय पुंन [शरद्] ऋतु-विशेष, श्राद्ध—  
शरित्वन तथा कार्तिक का नहींना (पण्ह २,  
२—पत्र ११४; गड्ड; ने १, २७; ना ५३४;  
स्वप्न ७०; कुमा; हे १, १८); 'सुय मारुं  
माण पियं पियसरयं जाव वचए सरयं' (वज्रा  
७४)। °चंद पुं [चन्द्र] शब्द ऋतु का  
चांद (लाया १, १—पत्र ३१)। देखो  
सर = शब्द।

सरय पुं [शरक] काष्ठ-विशेष, अग्नि उत्पन्न  
करने के लिए शरणि का काष्ठ जिससे विसा  
जाता है वह (लाया १, १८—पत्र २४१)।

सरय पुंन [सरक] ? नद्य-विशेष, गुड़ तथा  
घातकी का बना हुआ शरु (पण्ह २, ५—  
पत्र १५०; सुपा ४८५; ना ५५१ अ; कुप्र  
१०)। २ नद्य-यान (वज्रा ७४)।

सरय देखो सरय = सरत्त।

सरय (अप) पुं [सरस] छन्द-विशेष (पिंग)।

सरल पुं [सरल] ? वृक्ष-विशेष (पण्ह १—  
पत्र ३४)। २ ऋतु, माघ-रहित (कुमा;  
वण)। ३ सीधा, अक्रूर (कुमा; गड्ड)।

सरल्लिअ वि [सरल्लि] सीधा किया हुआ  
(कुमा; गड्ड)।

सरली व्री [दे] चौरिका; खुद कीट-विशेष,  
चोंगुर (दि ८, २)।

सरलीआ व्री [दे] ? जन्तु-विशेष, साही,  
जिनके शरीर में कंठि होती है। २ एक जात  
का कीड़ा (दि ८, १५)।

सरय पुं [शरप] बुजपरिसर्प की एक प्रकार  
(सूत्र २, ३, २५)।

सरस वि [सरस] स-बुद्ध (श्रीप; अंत;  
गड्ड)। °रण्ण पुं [रण्य] समुद्र, सागर  
(सि ६, ४३)।

सरसिज ) न [सरसिज] कमल, पद्म  
सरसिय ) (हम्मोर ५१; रंभा)।

सरसिरह न [सरसिरह] कमल, पद्म (वज  
७२८ टी; सम्मत ७६)।

सरसी व्री [सरसी] बड़ा तालाब—उड़ाग  
(श्रीप; उव वृ ३८; सुपा ४८५)। °रह न  
[रह] कमल (सम्मत १२०; १३६)।

सरत्सई व्री [सरत्सई] ? याणी, भारतीय,  
भाषा (प्राय; श्रीप)। २ याणी की प्रविष्टात्री  
देवी (सुर १, १५)। ३ गीतरति नामक  
इन्द्र की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र  
२०४; लाया २—पत्र ३५२)। ४ एक  
राज-पत्नी (विना २, २—पत्र ११२)। ५  
एक जैन साध्वी जो मुप्रसिद्ध कालकाचार्य  
की बहिन थी (काल)।

सरह पुं [शरभ] ? शिकारी पशु की एक  
जाति (सुपा ६३२)। २ हरिवंश का एक  
राजा (पठम २२, ६८)। ३ लदनगु के  
एक पुत्र का नाम (पठम ६१, २०)। ४  
एक सामन्त-नरेश (पठम ८, १३२)। ५  
एक वातर (सि ४, ६)। ६ व्यन्ध-विशेष  
(पिंग)।

सरह पुं [दे] ? वृक्ष-विशेष, बेंतम या बेंत  
का पेड़ (दि ८, ४७)। २ सिंह, पञ्चानन  
(दि ८, ४७; सुर १०, २२२)।

सरह (अप) वि [इल्लाय] प्रयत्ननीय (पिंग)।

सरहस देखो सर-रहस = सर-मत्त।

सरहा व्री [सरहा] मधु-मक्षिका (दि २,  
१००)।

सरहि पुं व्री [शरधि] तूलीर, तीर रखने का  
भाया—तरकस (ने ७०)।

सरा व्री [दे] नाला (दि ८, २)।

सराग देखो सर राग = सर-राग।

सराड व्री [शराटि, शराडि] पत्नी की  
एक जाति (गड्ड)।

सराय पुं [शराय] मिट्टी का पात्र-विशेष,  
सकौरा; पुरवा (दि २, ४७; सुपा २६६)।

सरासण देखो सर-सण = शरासन।

सराह वि [दे] र्वाट्टर- गवं ने उद्धत (दि  
८, ५)।

सराहय पुं [दे] सर्प, सांप (दि ८, १२)।

सरि वि [सहरा] सहर, सरीखा, तुल्य  
(भग; लाया १, १—पत्र ३६; अंत ५;  
हे १, १४२; कुमा)।

सरि व्री [सरि] नदी (सि २, २६; सुपा  
३५४; कुप्र ४३; भत्त १२३; महा)।

°नाह पुं [नाथ] समुद्र (धर्मवि १०१)।  
देखो सरिआ।

सरिअ वि [समुत्त] वाद किया हुआ (पठम  
३०, ५४; सुपा २२१; ४६२)।

सरिअ देवां सरि = सहर, 'सोमेमाणा  
सरियं संपत्थिवा पिरजमा देविदा' (श्रीप)।

सरिअं न [सुत्तम] अंत, पर्याप्त, बस;  
'बहुनाणिएण सरिअं' (खल ५०)।

सरिआ व्री [सरि] नदी (कुमा; हे १,  
१५; महा)। °वइ पुं [पति] समुद्र (सि  
७, ४१; ६, २)।

सरिआ व्री [दे] माला, हार (पण्ह १,  
४—पत्र ६८; कुप्र ३; सुपा ३५३)।

सरिअय ) वि [सहर] सहर, समान,  
सरिअय ) तुल्य (प्राक ८६; प्राक हे १,  
१४२; २, १७; कुमा)।

सरिअ वि [सह] सरण-कर्ता (ठा १—  
पत्र ४४४)।

सरिभरी व्री [दे] समानता, सरोखाई,  
युजराती में 'सरभर'; तथा जाया दोएहवि  
सरिभरी' (महा १०)।

सरि देखो सरीर (पत्र २०५)।

सरिवाय पुं [दे] आकार, वेगवाली वृष्टि  
(दि ८, १२)।

सरिस वि [सहरा] समान, सरोखा; तुल्य  
(हे १, १४२; ना; उव; हेका ४८)।

सरिस पुंन [दे] ? सह, साथ;

'का समतीवी विपसिदयाण

वडवालणुत्त सरिसमि।

उवसमियविहीपसरो

मयरहरो ईवणं जस

(वज्रा १५४)।

'आत्तो संगामो वलवदया वेण सरिसोत्ति'  
(महा)। २ तुल्यता; समानता (संज्ञि ४७);

'अतेउसरिसेणं पलोइयं नस्वस्दिणं' (महा)।  
सरिसरी देखो सरिभरी (महा)।

सरिसव पुं [सर्प] सरसों (चंड; श्रीप  
४०२; सं ४४; कुमा; कम्म ४, ७४; ७५;  
७७; लाया १, ५—पत्र १०७)।

सरिसाहुळ वि [दे] समान, सहर (दि  
८, ६)।

सरिसव देखो सरीसव (पठम २०, ६२)।

सरी स्त्री [दे] माला, हार (सुपा २३१) ।  
 सरीर पुंन [शरीर] देह, काय, तनु (सम ६७; उवा; कुमा; जी १२); 'कइ एणं भंते सरोरा परएणत्ता' (परएण १२) । 'णाम, 'नाम पुंन / 'नामन् ] कर्म-विशेष, शरीर का कारण-भूत कर्म (राज; सम ६७) । 'बंधण न [वन्धन] कर्म-विशेष (सम ६७) । 'संघायण न [संघातन] नाम कर्म का एक भेद (सम ६७) ।  
 सरीरि पुं [शरीरिन्] जीव, आत्मा (पउम ११२; १७) ।  
 सरीसव } पुं [सरीसुव] १ सर्प, साप (खा सरीसिव) ११; सूत्र १, २, २, १४) । २ सर्प की तरह पेट से चलनेवाला प्राणी (सम ६०) ।  
 सरुय } देखो स-रुय = स्व-रूप ।  
 सरुव }  
 सरुव देखो स-रुव = सद-रूप, स रूप ।  
 सरुवि पुं [स्वरुपिन्] जीव, प्राणी (ठा २, १—पत्र ३८) ।  
 सरेअव्व देखो सर = च, स्मृ ।  
 सरेव्व पुं [दे] १ हंस । २ घर का जल-प्रवाह, मोरी (दे ८, ४८) ।  
 सरोअ न [सरोज] कमल, पद्म (कुमा; अचु ४२; सुपा ५६; २११; कुप्र २६८) ।  
 सरोरुह न [सरोरुह] ऊपर देखो (प्राप्र; कुमा; कुप्र ३०४) ।  
 सरोवर न [सरोवर] बड़ा तालाव (सुपा २६०; महा) ।  
 सलभ देखो सलह = शलभ (राज) ।  
 सलली स्त्री [दे] सेवा (दे ८, ३) ।  
 सलह सक [शलाघ] प्रशंसा करना । सलहइ (हे ४, ८८) । कर्म. सलहज्जइ (पि १३२) ।  
 क. सलहज्ज (कुमा) । देखो सलाह ।  
 सलह पुं [शलभ] १ पतङ्ग (पात्र; गउड; सुपा १४२) । २ एक वणिक्-पुत्र (सुपा ६१७) ।  
 सलहण न [शलाघन] प्रशंसा, श्लाघा (गा ११४; पि १३२) ।  
 सलहत्थ पुं [दे] कुड़की आदि का हावा (दे ८, ११) ।  
 सलहिवि न [शलाघित] प्रशंसित (कुमा) । १११

सलहज्ज देखो सलह = श्लाघ ।  
 सलाग न [शालाक्य] चिकित्सा-शास्त्र—  
 आयुर्वेद का एक ग्रंथ, जिसमें श्रवण आदि शरीर के ऊर्ध्व भाग के सम्बन्ध में चिकित्सा का प्रतिपादन हो वह शास्त्र (विपा १, ७—पत्र ७५) ।  
 सलागा स्त्री [शलाका] १ सली, सलाई सलाया } (सूत्र १, ४, २, १०; कप्पु) ।  
 २ पल्य-विशेष, एक प्रकार की नाप (जीवस १३६; कम्म ४, ७३; ७५) । 'पुरिस पुं [पुरुप] २४ जिनदेव, १२ चक्रवर्ती, ६ वासुदेव । ६ प्रतिवासुदेव तथा ६ बलदेव ये ६३ महापुल्य (संबोध ११) ।  
 सलाह देखो सलह = श्लाघ । सलाहइ (प्राक २८) । वक. सलाहमाण (गा ३४६; सम्म १५६) । क. सलाहणिज्ज, सलाहणिय, सलाहणीअ (प्राक २८; गाया १, १६—पत्र २०१; सुर ७, १७१, रयण ३५; पउम ८२, ७३; पि १३२) ।  
 सलाहण न [शलाघन] श्लाघा, प्रशंसा (गा ११४; उप पृ १०६) ।  
 सलाहा स्त्री [शलाघा] प्रशंसा (प्राप्र; हे २, १०१; पइ) ।  
 सलाहिवि देखो सलहिवि (कुमा) ।  
 सलिल पुंन [सलिल] पानी, जल; 'सलिला ए सदंति ए वंति वाया' (सूत्र १, १२, ७; कुमा; प्रासू ३५) । 'णिहि पुं [निधि] सागर, समुद्र (से ६, ६) । 'नाह पुं [नाथ] वही (पउम ६, ६६) । 'विल न [विल] भूमि-निर्भर, जमीन से बहता ऋना (भग ७, ६—पत्र ३०५) । 'रासि पुं [राशि] समुद्र (पात्र) । 'वाइ पुं [वाइ] मेघ (पउम ४२, ३४) । 'हर पुं [धर] वही (से ६, ६४) । 'वई, 'वती स्त्री [वती] विजय-क्षेत्र-विशेष (राज; गाया १, ८—पत्र १२१) । 'वत्त न [वर्त] वैताल्य पर्वत पर उत्तर दिशा-स्थित एक विद्याघर-नगर (इफ) ।  
 सलिला स्त्री [सलिला] महानदी, बड़ी नदी (सम १२२) ।  
 सलिलुच्छय वि [सलिलोच्छय] प्लावित, डूबीया हुआ (पात्र) ।

सलिस थक [स्वप्] सोना, शयन करना । सलिसइ (पइ) ।  
 सल्लण देखो स-ल्लण = स-लवण ।  
 सल्लोग पुं [श्लोक] श्लाघा, प्रशंसा (सूत्र १, १३, १२) । देखो सिल्लोग ।  
 सल्लोग देखो स-ल्लोग = स-लोक ।  
 सल्लोग देखो स-ल्लोग = स-लवण ।  
 सल्लोय देखो सल्लोग = श्लोक (सूत्र १, ६, २२) ।  
 सल्ल पुंन [शल्य] १ शस्त्र-विशेष, तोमर, सांग; 'तन्नो सल्ला परएणत्ता' (ठा ३, ३—पत्र १४७) । २ शरीर में घुसा हुआ काँटा, तीर आदि (सूत्र २, २, २; पंचा ६, १६; प्रासू १२०) । ३ पापानुष्ठान, पाप-क्रिया; 'पागडियसव्वसल्लो' (उवा; सूत्र १, १५, २४) । ४ पापानुष्ठान से लगनेवाला कर्म (सूत्र १, १५, २४; वव १) । ५ पुं. भरत के साथ दीक्षा लेनेवाले एक राजा का (पउम ८५, २) । ६ न. छन्द-विशेष (पिग) । 'ग वि [क] शल्यवाला, शूल आदि शल्य से पीड़ित (परह २, ५—पत्र १५०) । 'ग न [ग] परिज्ञान, जानकारी (सूत्र २, २, ५७) ।  
 सल्ल पुंन्नी [दे] हाथ से चलनेवाले सर्प-जातीय जन्तु की एक जाति (सूत्र २, ३, २५) ।  
 सल्लइव वि [शल्यकित] शल्य-युक्त, जिसको शल्य पैदा हुआ हो वह (गाया १, ७—पत्र ११६) ।  
 सल्लई स्त्री [सल्लकी] वृक्ष-विशेष (गाया १, ७ टी—पत्र ११६; उप १०३१ टी; कुमा; धर्माव १३०; सुपा २६१) ।  
 सल्लग देखो सल्ल-ग = शल्य-क, शल्य-ग ।  
 सल्लग देखो स-ल्लग = सत्-लग ।  
 सल्लहत्त पुंन [शल्यहत्त्य] आयुर्वेद का एक ग्रंथ, जिसमें शल्य निकालने का प्रतिपादन किया गया हो वह शास्त्र (विपा १, ७—७५) ।  
 सल्ला स्त्री [शल्य] एक महौषधि (ती ५) ।  
 सल्लिवि वि [शल्यित] शल्य-पीड़ित (सुर १२, १५२; सुपा २२७; महा; भवि) ।  
 सल्लिह देखो संलिह = सं + लिह् । सल्लिहदि (आरा ३५) ।

सल्लुद्वरण न [शल्लुद्वरण] १ शल्य को बाहर निकालना (विवा १, ८—पत्र ८६) । २ आलोचना, प्रायश्चित्त के लिए गुरु के पास दूषण-निवेदन (श्रौव ७६१) ।

सल्लेहणा देखो सल्लेहणा (आरा ३५; भवि) । सल्लेहिय वि [सल्लेहिन] क्षीण, 'सल्लेहिया कसाया करंति मुणियाणो ए चित्तसंखोहं' (आरा ३६) ।

सव सक [शप्] १ शाप देना, आक्रोश करना, गाली देना । २ आह्वान करना । सवइ (गा ३२४; ४००); सविमो, सवसु (कुमा) । कर्म, सप्पए (विसे २२२७) । वड्ड. सवमाण (उव) । कवड्ड. सप्पमाण (परह १, ३—पत्र ५४) ।

सव सक [सु] उत्पन्न करना, जन्म देना । सवइ (हे ४, २३३; पड्ड) ।

सव देखो सो = सु । सवइ, सवर (पड्ड) ।

सव सक [स्] करना, उपरुना, बूना । सवइ (विसे १३६८) ।

सव पुं [श्रवस्] १ कान । २ ह्याति; 'सवोमूशो' (आप्र) ।

सव न [शव] शव, मुरदा, मृत शरीर (पात्र; न ७६३; सण) ।

सवती स्त्री [सवन्ती] नदी (उव १०३१ टो) । सवकी देखो सवती (सुपा ३३७; ६०१; सुक्त ४६; महा; कुप्र १७०) ।

सवक्ख देखो स-वक्ख = स-पन्न ।

सवग्गीय वि [सवगीय] सवगं-संक्खो (हास्य १३०) ।

सवच देखो स-पच = श्व-पच ।

सवज्जा देखो सपज्जा (चैद्य २०४; कप्पु) ।

सवड्डमुह् } वि [दे] अमिमुख, संमुख;  
सवड्डमुत्त } 'सहसा सवड्डमुहो चलिओ'  
(महा; दे ८, २१; पउम ७२, ३२; भवि),  
उपड्डओ नहयलं विमाणवो अह ताए  
सवड्डहुत्तो रणरसतएहालुयो सहसा' (पउम  
८, ४७); 'वच्चइ य दाहिणदिसं लंकायरो-  
सवड्डहुत्तो' (पउम ८, १३४) ।

सवण देखो सग्गण = श्वण (आरा ३६, भवि) ।

सवण पुं [श्रवण] १ कण, कान (पात्र; सुपा १२८) । २ नदय-विशेष (सम ८, १५; सुत्र १०, ५) । ३ न. आकर्णन, सुनना (भग; मुर १, २४६) । देखो सवन ।

सवण न [शपन] आह्वान (विसे २२२७) ।

सवण देखो स-वण = स-अण ।

सवण न [सवन] कर्मों में प्रेरणा (राज) ।

सवणता } स्त्री [श्रवणता] १ आकर्णन,  
सवणथा } श्रवण, सुनना (ठा २, १—  
पत्र ४६; ६—पत्र ३५५; णया १, १—  
पत्र २६; भग; श्रौप) । २ अवग्रह-ज्ञान  
(एण्दि १७४) ।

सवण वि [सवर्ण] समान वर्णवाला (पउम २, ३१) ।

सवण न [सावण्य] समान-वर्णता (प्रयो २०) ।

सवत्त पुं [सपत्त] १ दुश्मन, शत्रु, रिपु; (से ३, ५७; उव १०३१ टो; गवड्ड) । २ वि. विच्छ (श्रौप २७६) । ३ समान, तुल्य; 'सवत्तसवत्तनयणरमणिया' (कुप्र २); 'सवमेव तसिसवत्तं छत्तं उवरि ठियं तस्स' (कुप्र ११६) ।

सवत्तिणी देखो सवत्ती; 'सवि (? व)त्तिणी' (पिंड ५१०) ।

सवत्तिया स्त्री [सपत्तिका] नीचे देखो (उवा) ।

सवत्ती स्त्री [सपत्ती] पति की दूसरी स्त्री (उवा; काप्र ८७१; स्वण ५७; ठा ४, ३—पत्र २४२; हेका ४५) ।

सवन (मा) पुं [श्रवण] एक ऋषि का नाम (मोह १०६) । देखो सवण = श्रवण ।

सवन्न देखो सवण (हम्मो १७) ।

सवय देखो स-वय = स-वयस्, स-वत् ।

सवर देखो सवर (पउम ६८, ६५; इक; कप्पु; पि २५०) ।

सवरिआ देखो सपज्जा (नाट—वेणी २६) ।

सवल देखो सवल (दे २, ५५; कुमा; हे १, १३७; रंभा) ।

सवलिया स्त्री [दे] भरोच का एक प्राचीन जैन मन्दिर (मुण १०८६६) ।

सवह पुं [शपथ] १ आक्रोश-वचन, गाली (णाया १, १—पत्र २६; देवेन्द्र ३५) । २ सोणव, सोंह (गा ३३३; महा) । ३ दिव्य, दीपारोप की शुद्धि के लिए किया जाता अग्नि-प्रवेश आदि (पउम १०१, ७) ।

सवाय पुं [दे] श्वेत पक्षी (दे ८, ७) ।

सवाग } देखो स-वाग = स-वाक ।  
सवाय }

सवाय देखो स-वाय = स-वाद, स-वाद, स-वाच् ।

सवार न [दे] सुवह, प्रभात, गुजराती में 'सवार' (वृह १) ।

सवास पुं [दे] ब्रह्मण (दे ८, ५) ।

सवास देखो स-वास = स-वास ।

सविअ वि [शत] शाप-वस्त, आक्रुष्ट (दे १, १३; पात्र) ।

सविड पुं [सविट्ट] १ नृत्य, रवि (श्रौप ६६७) । २ हस्त-नक्षत्र का अविपति देव (सुज्ज १०, १२) । ३ हस्त नक्षत्र (अणु) ।

सविक्रव वि [सापेक्ष] अपेक्षा रखनेवाला (सम्मत्त ७६) ।

मविज्ज देखो स-विज्ज = स-विद्य ।

सविट्टा स्त्री [अविट्टा] नदय-विशेष, वनिष्ठा नक्षत्र (राज) ।

सविण देखो सुमिण = स्वण (पव ६८) ।

सवितु देखो सविड (ठा २, ३—पत्र ७७) ।

सविस न [दे] सुरा, दाह (दे ८, ४) ।

सविह न [सविह] पास, निकट (पात्र) ।

सव्व वि [सव्य] वाम, बाया (श्रौप; उव पु १३०) ।

सव्व वि [श्रव्य] श्रवण-योग्य, 'सव्वक्खरसं-निवाइ' (भग १, १—पत्र ११) ।

सव्व स [सर्व] १ सव, सकल, समस्त । २ संपूर्णा (हे ३, ५८; ५६) । 'ओ व्र [तस] १ सव ते । २ सव ओर ते (हे १, ३७; कुमा; आचा) । 'ओभइ वि [तोभइ] १ सव प्रकार ते सुखी । २ न. सव प्रकार ते सुख (पञ्च १) । ३ चक्र-विशेष, शुभाशुन के ज्ञान का साधन-भूत एक चक्र (ति ६) । ४ महाशुक्र देवलोक में स्थित एक विमान (सम ३२) । ५ पांचवां त्रैवेयक विमान

(पत्र १६४) । ६ एक नगर का नाम (विपा १, ५—पत्र ६१) । ७ अच्युतेन्द्र का एक पारिवानिक विमान (ठा १०—पत्र ५१८; श्रौप) । ८ दृष्टिवाद का एक सूत्र (सम १२८) । ९ पुं. यज्ञ की एक जाति (राज) । १० देव-विमान-विशेष (देवेन्द्र १३६; १४१) ।  
 °ओभद्रा स्त्री [°तोभद्रा] प्रतिमा-विशेष, एक व्रत (श्रौप; ठा २, ३—पत्र ६४; अंत २६) । °कामसमिद्ध पुं [°कामसमिद्ध] पक्ष का छठवाँ दिवस, पशु तिथि (सुज १०, १४) । °कामा स्त्री [°कामा] विद्या-विशेष, जिसकी साधना से सर्व इच्छाएँ पूर्ण होती हैं (पउम ७, १०७) । °गय वि [°गत] व्यापक (अच्छु १०) । °गा स्त्री [°गा] उत्तर वृक पर्वत पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७) । °गुप्त पुं [°गुप्त] एक जैन मुनि (पउम २०, १६) । °ज वि [°ज] १ सर्व पदार्थों का जानकार । २ पुं. जिन भगवान् । ३ बुद्धदेव । ४ महादेव । ५ परमेश्वर (हे २, ८३; पड; प्राप्र) । °ड पुं [°थ] १ अहो-रात्र का अतीसर्वा मुहूर्त (सुज १०, १३) । २ पुं. सहस्रार देवलोक का एक विमान (सम १०५) । ३ अनुत्तर देवलोक का सर्पोसिद्ध-नामक एक विमान (पत्र १६०) । ४ पुं. सब अर्थ (आचा १, ८, ८, २५) । °दृसिद्ध पुं [°थसिद्ध] १ अहोरात्र का अतीसर्वा मुहूर्त (सम ५१) २ एक सर्व-श्रेष्ठ देव-विमान, अनुत्तर देवलोक का पाँचवाँ विमान (सम २; भग; अंत; श्रौप) । ३ पुं. ऐरवत वर्ष में उत्पन्न होनेवाले छठवें जिनदेव (पत्र ७) । °दृसिद्धा स्त्री [°थसिद्धा] भगवान् धर्मनायकी की दोहा-शिविका (विचार १२६) । °दृसिद्धि स्त्री [°थसिद्धि] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३७) । °णु देवो °ज (हे १, ५६; पड; श्रौप) । °त्त देवो °थ (सपु १५०) । °त्तो देवो °ओ (पाप्र) । °थ अ [°त्र] सब स्थान में, सब में (गउड; प्रासु ३६; ६८) । °दंसि, °दरिसि वि [°दंशान्] १ सब वस्तुओं को देखनेवाला । २ पुं. जिन भगवान्, अहं (राज; भग; सम १; पडि) । °देव पुं [°देव] १ एक प्रसिद्ध जैन आचार्य

(सार्धं ८०) । २ राजा कुमारपाल के समय का एक सेठ (कुप्र १४३) । °दंसि देवो °दंसि (चिद्व ३५१) । °द्वा स्त्री [°द्वा] सब काल, अतीत आदि सर्व समय (भग) । °धत्ता स्त्री [°धत्ता] व्यापक, सर्व-ग्राहक (विसे ३४६१) । °न्तु देवो °ज (सम १; प्रासु १७०; महा) । °पग वि [°त्सक] १ व्यापक । २ पुं. लोभ (सूत्र १, १, २, १२) । °पभा स्त्री [°प्रभा] उत्तर वृक पर्वत पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (राज) । °भक्त्वि वि [°भक्त्वि] सबको जाने-वाला, सर्व-भोजी; 'अग्निमित्र सर्वभक्त्वे' (साया १, २—पत्र ७६) । °भद्रा स्त्री [°भद्रा] प्रतिमा-विशेष, व्रत-विशेष (पत्र २७१) । °भावविद्ध पुं [°भावविद्ध] आगामी काल में भारत वर्ष में होनेवाले बाहरवें जिन-देव (सम १५३) । °य वि [°द] सब देनेवाला (पह २, १—पत्र ६६) । °या अ [°दा] हमेशा; सदा (रंगा) । °रयण पुं [°रत्न] १ एक महा-निवि (ठा ६—पत्र ४४६) । २ पुं. पर्वत-विशेष का एक शिखर (इक) । °रयणा स्त्री [°रत्ना] ईशानेन्द्र की वसुमित्रा नामक इन्द्राणी की एक राजधानी (इक) । °रयणामय वि [°रत्नमय] १ सब रत्नों का बना हुआ (पि ७०; जीव ३, ४) । २ चक्रवर्ती का एक निवि (उव ६८६ टी) । °विग्गहिअ वि [°विग्रहिक] सर्व-संक्षिप्त, सबसे छोटा (भग १३, ४—पत्र ६१६) । °विरइ स्त्री [°विरति] पाप-कर्म से सर्वथा निवृत्ति, पूर्ण संयम (विसे २६८४) । °संगय [°सङ्गय] मृत्यु (पउम—पत्र ० ३२१, पत्र ११०, गा० ४४) । °संजम पुं [°संयम] पूर्ण संयम (राय) । °सह वि [°सह] सब सहन करनेवाला, पूर्ण सहिष्णु (पउम १४, ७६) । °सिद्धा स्त्री [°सिद्धा] पक्ष की चौथी, नववीं और चौदहवीं रात्रि-तिथि (सुज १०, १५) । °सो अ [°शास] सब और से, सब प्रकार से (उत्त १, ४; आचा) । °स्स न [°स्व] सकल द्रव्य, सब वन (स ४५६; अग्नि ४०; कप्पु) । °हा अ [°था] सब प्रकार से, सब तरह से (गा ८६७; महा; प्रासु ३;

१८१) । °णंद पुं [°णन्द] ऐरवत क्षेत्र के एक भावी जिन-देव (सम १५४) । °णुभूइ पुं [°णुभूति] १ भारत वर्ष में होनेवाले पाँचवें जिन भगवान् (सम १५३) । २ भगवान् महावीर का एक शिष्य (भग १५—पत्र ६७८) । °रुहा स्त्री [°रुहा] विद्या-विशेष (पउम ७, १४४) । °व वि [°व] संपूर्ण (भग) । °सग पुं [°शान] अग्नि; आग (हे ४, ३६५) ।

सर्वकस वि [सर्वकस] १ सर्वातिशयो, सर्व से विशिष्ट (कप्पु) । २ न. पाप (आव) । सर्वंग वि [सर्वङ्ग] १ संपूर्ण (ठा ४, २—पत्र २०८) । सर्व-शरीर-व्यापी (राज) । °सुंदर वि [°सुन्दर] १ सर्व अंगों में श्रेष्ठ । २ पुं. तप-विशेष (राज; पत्र २७१) ।

सर्वंगिअ वि [सर्वङ्गीण] सर्व अवयवों सर्वंगीण में व्याप्त (हे २, १५१; कुमा; से १५, ५४); 'सर्वंगीणाभरणं पत्तयं तेषा ताण कयं' (कुप्र २३५; वमंवि १४६) ।

सर्वण देवो स-व्वण = स-व्वण ।

सर्वराइअ वि [सर्वरात्रिक] संपूर्ण रात्रि से सम्बन्ध रखनेवाला, सारी रात का (सूत्र २, २, ५५; कप्पु) ।

सर्वरी स्त्री [शर्वरी] रात्रि, रात (पाप्र; गा ६५३; सुपा ४६१) ।

सर्वल पुं [दे. शर्वल] कुन्त, बर्छा (राज; काल) । देवो स-द्वल ।

सर्वला स्त्री [दे. शर्वला] कुशी, लोहे का एक हथियार (दे ८, ६) ।

सर्ववेक्ख देवो स-व्ववेक्ख = स-व्वपेक्ष ।

सर्व्वाव देवो स-व्व्वाव = सर्वाप ।

सर्व्वाव देवो स-व्व्वाव = स-व्व्याप ।

सर्व्वावति अ [दे] सर्व, सब, संपूर्ण; 'एवा-वति सर्व्वावति लोगंसि' (आचा); 'सर्व्वावति च एं तीसे एं पुक्खरिणीए' (सूत्र २, १, ५), 'सर्व्वावति च एं लोगंसि' (सूत्र २, ३, १), 'सर्व्वं ति सर्व्वावति फुसमाणकालसमयंसि जावतियं खेतं फुसई' (भग १, ६—पत्र ७७) ।

सन्विद्धि स्त्री [सर्वद्धि] संपूर्ण वैभव (साया १, ८—पत्र १३१) ।

सन्धिवर देखो सन्धिवर = सन्धिवर ।

सन्धोसहि धो [सन्धोपधि] १ लन्धिविशेष, त्रिसके प्रभाव से शरीर की कफ आदि सब चीज औपधि का काम करती है (परह २, १—पत्र ६६) । २ वि. लन्धिविशेष को प्राप्त (राज) ।

सस अक [सस] श्वात्त लेना; ससना । ससइ (स्वण ६) । वक्र. ससंत (खाया १, १—पत्र ६३; गा ५४६; मुर १२, १६४; नाट—मृच्छ २२०) ।

सस पुं [शश] खरगोश (खाया १, १—पत्र २४; ६५) । ईध पुं [°विह] चन्द्रमा (गउड) । हूर पुं [°धर] चन्द्रमा (खाया १, ११; मुर १६, ६०; हे ३, ८५, कुमा; वज्रा १६; रंभा) ।

ससंक पुं [सशाङ्क] १ चन्द्रमा, चांद (कप्य; मुर १६, ५५; सुपा २०; कप्य; रंभा) । २ नृप-विशेष (पउम ५, ४३; ८५, २) । °धम्म पुं [°धर्म] विद्यावर-वंश का एक राजा (पउम ५, ४४) ।

ससंक देखो स-संक = स-शङ्क ।

ससंक्रिय देखो स-संक्रिय = स-शङ्कित ।

ससंग देखो ससंक = शशाङ्क ।

ससंवेयण देखो स-संवेयण = स्व-संवेदन ।

ससकल वि [ससाक्ष्य] साक्षीवाला (राय १४०) ।

ससग पुं [शशक] देखो सस = शश (उव) ।

ससण पुं [शसण] १ शुण्डा-दण्ड, हाथो की गूँड (तंडु २०; औप) । २ बाघ, पवन । ३ न. निवास (राज) ।

ससत्ता देखो स-सत्ता = स-सत्त्वा ।

ससरक्ख वि [सरज्जक, सरक्ष] १ रज्जो-युक्त, धूलीवाला (आचा २, १, ६, ३; २, २, ३, ३३; आच ४) । २ पुं. बौद्ध मत का साधु (सुख १८, ४३; महा) ।

ससराइअ वि [दे] निष्पिठ, पिशा हुआ (दे ८, २०) ।

ससा धो [स्वस] बहन, भगिनी (पिड ३१७; हे ३, ३५; कुमा) ।

ससि पुं [शशिर] १ चन्द्रमा, चांद (सुज २०—पत्र २६१; उव; कप्य; कुमा; पि ४०५) । २ एक विद्यार्थी का नाम (पउम ५, ६४) । ३ चन्द्र नाड़ी, वाम नाड़ी (सिरि ३६१) । ४ एक देव-विमान (दिवेन्द्र १४३) ।

५ छन्द-विशेष (पिग) । ६ एक राजा का नाम (उव) । ७ दक्षिण त्वक पर्वत का एक कूट (ठा ८—पत्र ४३६) । °अंत पुं [°कान्त] चन्द्रकान्त मणि (प्रचु ५८) । °अला धो [°कला] चन्द्र की कला, सोलहवां भाग (गउड) । °कंत देखो °अंत (कुमा; सण) । °पभ, °पह पुं [°प्रभ] १ आठवें जिनदेव, भगवान् चन्द्रप्रना । २ इक्ष्वाकु वंश का एक राजा (पउम ५, ५) । °पवहा धो [°प्रभा] एक रानी, कर्पूरसंजरो की माता (पउम ६, ६१; कप्य) । °मणि पुं [°मणि] चन्द्रकान्त मणि (मे ६, ६७) । °लेहा धो [°लेहा] चन्द्र की कला (सुपा ६३३) । °वक्रय न [°वक्रक] आभूषण-विशेष (औप) । °वेग पुं [°वेग] एक राज-कुमार (उप १०३१ वी) । °सेहर पुं [°शेहर] महादेव, शिव (सुपा ३३) ।

ससिअ न [श्वसित] धान, सांस (ते १२, ३२) ।

ससिण देखो ससि (कप्य) ।

ससिणिद्ध वि [संस्निग्ध, सस्निग्ध] स्नेह-युक्त (आचा २, १, ७, ११; कप्य) ।

ससिरथ न [ससिरथ] आटा आदि से लिप्त हाथ या बरतन आदि का धोवन (पडि) ।

ससिरिय } देखो स-सिरिय = स-श्रीक ।  
ससिरीय }

ससिह देखो स-सिह = स-सृह, स-शिल ।

ससुर पुं [शसुर] सगुर; पति और पत्नी का पिता (पउम १८, ८; हेका ३२; कुमा; सुपा ३७७) ।

ससूग देखो स-सूग = स-शूक ।

ससैस देखो स-सैस = स-शेष ।

ससोग } देखो स-सोग = स-शोक ।  
ससोगिह }

ससस न [शस्य] १ क्षेत्र-गत धान्य (गा ६८६; महा; सुपा ३२) । २ वि. प्रशंसनीय, श्लाघ्य (सुपा ३२) । देखो सास = शस्य ।

सस्मवण वि [सश्रवण] तर्कण, निगुण (सुपा ६४५) ।

सरिसय पुं [शस्मिक] छुरीवाल, कृपक (राज) ।

सरिसरिअ देखो स-स्सरिअ = स-श्रीक ।

सरिसरिली देखो सिसिरिली (उत्त ३६, ६८) ।

सरिसरीअ देखो स-स्सरिअ = स-श्रीक ।

ससन् धो [शश्रु] सास, पति या पत्नी की माता (प्राक ३८; सिरि ३५५) ।

सह अक [राज] शोभना, धिराजना । सहइ (हे ४, १००; पात्र; कुमा; सुपा ४) ।

सह अक [सह] सहन करना । सहइ, सहति (उव; महा; कुमा), सहइरे, सहइरे (पि ४५८) वक्र. सहंत, सहमाण (महा; पट्ट) । संक. सहिअ (महा) । हेक. सहिउं, सोहुं (महा; वात्वा १५५; १५७) । क. सहिअव्व, सोडव्व (वात्वा १५५; मुर १४, ८०; गा १८; कप्य; उप ७२८ टी; वात्वा १५७) ।

सह सक [आ + झा] हुकुम करना, आदेश करना, फरमाना । सहइ (वात्वा १५५) ।

सह वि [दे] १ योग्य, लायक (दे ८, १) । २ सहाय, मदद-कर्ता (सुप्र १, ३, २, ६) ।

सह वि [स्वक] देखो स = स्व (आचा) । °देस पुं [°देरा] स्वदेश, स्वकीय देश (पिग) । °संयुद्ध वि [संयुद्ध] १ निज से ही ज्ञान को प्राप्त । २ पुं. जिन-देव (औप) ।

सह वि [सह] १ समर्थ, शक्तिमान् (पात्र; से ५, २३) । २ सहिष्णु, सहन-कर्ता (आचा) । ३ पुं. दुर्गलिक मनुष्य को एक जाति (इक; राज) । ४ अ. साथ, संग (स्वप्न ३४; आचा; जी ४३; प्रासू ३८) । ५ दुर्गल, एक साथ (राज) । °कार पुं [°कार] १ ग्राम का पंड (कप्य) । २ साथ मिलकर काम करना । ३ मदद, साहाय्य (हे १ १७७) । °कारि वि [°कारि] १ साहाय्य-कर्ता (पंचा ११, १२) । २ कारण-विशेष (विसे ११६८; थावक २०६) । °गत, °गय वि [°गत] संयुक्त (परण, २२—पत्र ६३७; उव) । °गारि, गारिअ देखो °कारि (धर्मसं ३०६; उप ४७२; उवर ७६) । °चर देखो

°चर (कुमा) । °चरण न [°चरण] सहचर, साथ रहना; भेलापः 'रयणनिहाणोहि नवउ सहचरणं' (शु ८४) । °ज पुं [°ज] ? स्वभाव (कुमा; पिंग) । २ वि. स्वाभाविक (चैड्य ४७१) । °जाय वि [°जात] एक साथ उत्पन्न (गाया १, ५—पत्र १०७) । °देव पुं [°देव] ? एक पाण्डव, माद्री-पुत्र (वर्मावि ८२) । २ राजगृह नगर का एक राजा (उप ६४८ टी) । °देवा स्त्री [°देवा] श्रोपवि-विशेष (वर्मावि ८२) । °देवी स्त्री [°देवी] ? चतुर्थ चक्रवर्ती की माता (सम १५२; महा) । २ एक महौपवि (तो ५) । °धम्मआरिणी स्त्री [°धर्मचारिणी] पत्नी, भार्या (प्रति २२) । °पंसुकीलिअ वि [°पान्शुकीलित्त] बाल-मित्र (सुपा २५४; गाया १, ५—पत्र १०७) । °य देखो °ज (चैड्य ४४६; राज) । °चर वि [°चर] ? सहाय, साहाय्य-कर्ता । २ वयस्य, दोस्त । ३ अनुचर (पात्रः कुप्र २ । अच्यु ६०; नाट—शकु ६१) । °चरी स्त्री [°चरी] पत्नी, भार्या (कुप्र १५१; से ८, ६६) । °यार देखो °कार (पात्रः हे १, १७७) । °राग वि [°राग] राग-सहित (पउम १४, ३३) । °र देखो °कार (पउम ५३, ७६) । सह° देखो सहा = सभा (कुमा) । सहउत्थियया स्त्री [°दं] दूती (दे ८, ६) । सहगुह पुं [°दं] बूक, उल्लू, पक्षि-विशेष (दे ८, १६) । सहडासुह न [शकटामुख] बैताल्य की उत्तर श्रेणि में स्थित एक विद्यावर-नगर (इक) । सहण अ [°दे] सह, साथ में (सूत्र० च्छण० गा० २५७) । सहण न [सहन्] ? तितिका, मपेंण । २ वि. सहिण्णु, सहन करनेवाला (सं २६) । सहर पुं स्त्री [शकर] मत्स्य, मछली (पात्र; गउड) । स्त्री. °री (हे १, २३६; गउड) । सहर वि [°दं] साहाय्य-कर्ता, सहाय; 'न तस्स माया न पिया न भाया, कालम्मि तम्मि (अम्मो) सहरा भवति' (वे ४३) । सहल वि [सफल] फल-युक्त, सार्थक (उप १०३१ टी; हे १, २३६; कुमा; स्वप्न १६) ।

सहस देखो सहस्स (आ ४४, पि ६२; ६६) । °किरण पुं [°किरण] सूर्य, रवि (सम्मत् ७६) । °क्ख पुं [°क्ख] ? इन्द्र (सुपा १३०) । २ रावण का एक घोड़ा (पउम ५६, २६) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) ।

सहसकार पुं [सहसाकार] ? विचार किए बिना करना (आचा) । २ आकस्मिक क्रिया, अकस्मात् करना (भग २५, ७—पत्र ६१६) । ३ वि. विचार किए बिना करनेवाला (आचा) ।

सहसत्ति अ. अकस्मात्, शीघ्र, जल्दी, तुरन्त (पात्र; प्राकृ ८२) ।

सहसा अ [सहसा] अकस्मात्, शीघ्र, जल्दी (पात्र; प्रासू १५१; भवि) । °वित्तासिय न [°वित्रासित्त] अकस्मात् स्त्री के नेत्र-स्व-गन आदि क्रीड़ा (उत्त १६, ६) ।

सहस्स पुं [सहस्स] ? संख्या-विशेष, दस सौ, १००० । २ वि. हजार की संख्यावाला (जी २७; ठा ३, १ टी—पत्र ११६; प्रासू ४; कुमा) । ३ प्रचुर, बहुत (कप्प; आचम, हे २, १६८) । °किरण पुं [°किरण] ? सूर्य, रवि (सुपा ३७) । २ एक राजा (पउम १०, ३४) । °क्ख पुं [°क्ख] इन्द्र, देवाधिपति (कप्प; उत्त ११, २३) । °णयण, °नयण पुं [°नयण] ? इन्द्र (उव; हम्मोर ५; महा) । २ एक विद्यावर राज-कुमार (पउम ५, ६७) । °पत्त अ [°पत्त] हजार दण-वाला कमल (कप्प) । °पाग पुं [°पाक] हजार श्रोपवि से बनता एक प्रकार का तैल (गाया १, १—पत्र १६; ठा ३, १—पत्र ११७) । °रस्सि पुं [°रस्सि] सूर्य, रवि (गाया १, १—पत्र १७; भग; रयण ८३) । °लोयण पुं [°लोचन] इन्द्र (से ६२२) । °सिर वि [°शिरस्स] ? प्रभूत मस्तक-वाला । २ पुं विष्णु (हे २, १६८) । °वत्त देखो °पत्त (से ६, ३८; सुपा ४६) । °सो अ [°शस्स] हजार-हजार, अनेक हजार (आ १२) °हा अ [°धा] सहस्र प्रकार से (सुपा ५३) । °हुत्त अ [°हत्त्वस्स] हजार वार (पात्र; हे २, १५८) । देखो सहस, सहास ।

सहस्संयवण न [सहस्साम्भरण] एक उद्यान, ग्राम के प्रभूत पेड़ोंवाला वन (गाया, १, ८—पत्र १५२; अंत; उवा) ।

सहस्सार पुं [सहस्सार] ? आठवाँ देवलोक (सम ३५; भग; अंत) । २ आठवें देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ३ एक देव-विमान (देवेन्द्र १३५) । °वडिसिय पुं [°वडित्तस्स] एक देव-विमान (सम ३५) । सहा स्त्री [सभा] समिति, परिपत् (कुमा; स १२६; ५१६; मुपा ३८४) । °सय वि [°सद] सभ्य, सदस्य (पात्र; स ३८५) । सहा देखो साहा = शाखा (गा २३०) ।

सहाअ देखो स-हाअ = स्व-भाव । सहाअ पुं [सहाअ] साहाय्य-कर्ता (गाया १, २—पत्र ८८; पात्र; से ३, ३; स्वप्न १०६; महा; भग) ।

सहाइ वि [साहायियन्] ऊपर देखो (सिरि ६७; सुपा ५६३) ।

सहाइया स्त्री [साहायिका] मदद करनेवाली (उवा) ।

सहार देखो सह-र = सह-कार ।

सहाअ देखो स-हाअ = स्व-भाव ।

सहास देखो सहस्स (भवि) । °हुत्तो अ [°हत्त्वस्स] हजार वार (पड्) ।

सहासय देखो सहा-सय = सभा-सद ।

सहि वि [सखि] मित्र, दोस्त (पात्र; उर २, ६) । देखो सही° ।

सहि° देखो सही (कुमा) ।

सहिअ वि [सोड] सहन किया हुआ (से १, ५५; वात्वा १५५) ।

सहिअ वि [सहित] ? युक्त, समन्वित (उव; कुमा; सुपा ६१) । २ हित-युक्त (सूत्र १, २, २, २३) । ३ पुं. ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७७) ।

सहिअ पुं [सभिक] धूल-कारक, जुआ खेलनेवाला (दे ६, ४२; पात्र; सुपा ४८८) ।

सहिअ देखो स-हिअ = स्व-हित ।

सहिअ देखो सह = सह ।

सहिअ } वि [सहदय] ? सुन्दर चित्त-  
सहिअअ } वाला । २ परिपक्व बुद्धिवाला (हे १, २६६; दे १, १; काप्र ५२१) ।



सहिआ देखो सही (महा) ।

सहिज्ज वि देखो सहाअ = सहाय; 'हुंति सहिज्जा विदुरे कुवियावि सहोयरा चैव' (सुपा ४२७; महा; कुप १२) । व्री. °ज्जी (सुपा १६ टि) ।

सहिण देखो सणह + श्लक्षण (आचा २, ५, १, ७; स २६४; ३२६; ३३३) ।

सहिण्हु } वि [सहिण्णु] सहन करने की  
सहिर } आदतवाला (राज; पि ५६६) ।  
व्री. °री (गा ४७; पि ५६६) ।

सही व्री [सखी] सहेली, संगिनी (स्वप्न १४१; कुमा) ।

सही° देखो सहि । °वाय पुं [°वाद] मित्रता-सूचक वचन (सूत्र १, ६, २७) ।

सहीण वि [स्वाधीन] स्वायत्त, स्व-वश (पचम २७, १७; उव; दस ८, ६) ।

सहु वि [सह] समर्थ, शक्तिमान् (श्रौष; ७७; श्रौषभा ६८; उवर १४२; वव ४) ।

सहु (अप) देखो संघ (संति ३६) ।

सहुं (अप) अ [सह] साथ, संग (हे ४, ४१६; कुमा) ।

सहेज्ज देखो सहिज्ज (महा) ।

सहेर (अप) पुं [शेखर] पटपद छन्द का एक नेद (पिग) ।

सहेल वि [सहेल] हेला-युक्त, अनायास होनेवाला, सरल, गुजराती में 'सहेलु' (प्रवि ११) ।

सहोअर वि [सहोअर] १ तुल्य, सदृश (से ६, ४) । २ पुं. सगा भाई (पात्र; काल) ।

सहोअरी व्री [सहोअरी] सगे वहिन (राज) ।

सहोड वि [सहोड] चोरी के माल से युक्त, स-भोप (पिड ३८०; लाया १, २—पत्र ८६) ।

सहोअर देखो सहोअर (सुपा २४०; महा) ।

सहोसिअ वि [सहोसिअ] एक-स्थान-वासी (दे १, १४६) ।

साअड्ड सक [कृप] १ चाप करना, कृपि करना । २ खींचना । साअड्डइ (हे ४, १८७; पइ) ।

साअड्डिअ वि [कृष्ट] खींचा हुआ (कुमा ७, ३१) ।

साअद् (शौ) देखो सागद् (अभि १०२; नाट—मृच्छ ४; पि १८५) ।

साइ वि [शायिन्] सोनेवाला, शयन-कर्ता (सूत्र १, ४, १, २८; आचा; दस ४, २६) ।

साइ वि [सादि] १ आदि-सहित, उत्पत्ति-युक्त (सम्म ६१) । २ न. संस्थान-विशेष, शरीर की आकृति-विशेष, जिस शरीर में नामि से नीचे के अत्रयव पूर्ण और नामि के ऊपर के अत्रयव हीन हो ऐसी शरीराकृति (सम १४६; अणु) । ३ कर्म-विशेष, सादि-संस्थान की प्राप्ति का कारण-भूत कर्म (कम्म १, ४०) ।

साइ न [साचि] १ सेमल का पेड़, शालमली वृक्ष । २ संस्थान-विशेष, देखो साइ = सादि का दूसरा और तीसरा अर्थ (जीव १ टी—पत्र ४३) ।

साइ पुं व्री [स्वाति] १ नक्षत्र-विशेष (सम २६; कप्प); 'सा साई तं च जलं पत्तविसेसेण अंतरं गरुयं' (प्रामू ३६) । २ पुं. भारतवर्ष में होनेवाले एक जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५४) । ३ एक जैन मुनि (एदि ४६) । ४ हैमवत-वर्ष के शब्दापाती पर्वत का अविष्णायक देव (ठा २, ३—पत्र ६६; ८०) ।

साइ पुं [सादिन्] घुड़सवार (उप ७२८ टी) ।

साइ पुं व्री [साति] १ अच्छी चीज के साथ खराब चीज का मिश्रण, उत्तम वस्तु के साथ हीन वस्तु की मिलावट (सूत्र २, २, ६५) । २ अविश्रम, अविस्वास । ३ असत्य वचन, झूठ (परह १, २—पत्र २६) । ४ सातिशय द्रव्य, अपेक्षा-कृत अच्छी चीज (राज ११४) । °जोग पुं [°योग] १ मोहनीय कर्म (सम ७१) । २ अच्छी चीज से हीन चीज की मिलावट (राय ११४ टी) । °संपओग पुं [°संप्रयोग] वही अर्थ (राय ११४) ।

साइ पुं व्री [दे] केसर, 'सालतले सारिठिया अचइ चंडि ससाइपउमेहि' (दे ८, २२) ।

साउज्ज सक [स्वाद, सात्मा + ऊ] १ स्वाद लेना, खाना । २ चाहना, अभिलाष करना । ३ स्वीकार करना, ग्रहण करना । ४ आसक्ति करना । ५ अनुमोदन करना । ६ उपभोग करना । साउज्जइ, साइज्जामो (आचा; कस; कप्प—टी; भग १५—पत्र ६८०; श्रौष), साइज्जेज्ज (आचा २, १, ३, २) । भवि. साइज्जिस्सापि (आचा) । हेऊ. साइज्जित्तए (श्रौष) ।

साइज्जण न [स्वादन] अभिष्णु, आसक्ति (विसे २६८५) ।

साइज्जणया व्री [स्वादना] उपभोग, सेवा (ठा ३, ३ टी—पत्र १४७) ।

साइज्जिअ वि [दे] प्रबलम्बित (दे ८, २६) ।

साइज्जिअ वि [स्वादित] १ उपभुक्त (कप्प—टी) । २ उपभुक्त-सम्बन्धी । व्री. °या (कप्प) ।

साइम वि [स्वादिम] पान, सुपारी आदि मुखवास (ठा ४, २—पत्र २१६; आचा; उवा; श्रौष; सम २६) ।

साइय वि [सादिक] आदिवाला (कम्म १, ६; नव ३६) ।

साइय देखो सागय = स्वागत (सुर ११, २१७) ।

साइय न [दे] संस्कार (दे ८, २५) ।

साइयंकार वि [दे] स-प्रत्यय, विध्वस्त (पिडभा ४२) ।

साइरेग वि [सातिरेक] साधिक, सविशेष (सम २; भग) ।

साइसय वि [सातिशय] अतिशयवाला (महा; सुपा ३६७) ।

साई देखो सई = सची (इक) ।

साउ वि [स्वादु] स्वादवाला, मधुर (पिड १२८; उप ६७०; से २, १८; कुमा; हे १, ५) ।

साउग वि [स्वादुक] स्वादिष्ठ भोजनवाला, मधुर भोजनवाला; 'कुलाई जे वावइ साउगाई' (सूत्र १, ७, २३) ।

साउज्ज न [सायुज्य] सहयोग, साहाय्य (अचु ६५) ।

साङ्गिअ वि [शाकुनिक] १ पक्षि-यातक, पक्षियों के बच का काम करनेवाला (पएह १, १; २—पत्र २६; अणु १२६ टि; विपा १, २—पत्र ८३)। २ शकुन-शास्त्र का जानकार (सुपा २६७; कुप्र ५)। ३ श्येन पक्षी द्वारा शिकार करनेवाला (अणु १२६ टि)।

साउय देखो साउग (राज)।

साउय वि [सायुप्] आधुवाला, प्राणी (ठा २, १—पत्र ३८)।

साउल वि [संकुल] व्याप्त, भरपूर (सुर १०, १८)।

साउलवि वि [साकुलत] आकुलता युक्त, व्याकुल, व्यग्र; 'इन्दियमुद्रसाउलप्रो परिहिडई सोवि संसारें' (पउम १०२, १६७)।

साउली वी [दे] १ वन्राञ्चल (गा २६६)। २ वन, कपड़ा (गा ६०५)। देखो साहुली।

साउल पुं [दे] अतुराग, प्रेम (हिं ८, २४; पङ् १)।

साएज देखो साइज्ज। साएज्ज (भवि ११, २)।

साएव न [साकेत] अयोध्या नगरी (इक; सुपा ५५०; पि ६३)। पुर न [पुर] वही अर्थ (उप ७२८ टी)। पुरी वी [पुरी] वही (पउम ४, ४)। देखो साकेय।

साएया वी [साकेता] अयोध्या नगरी (पउम २०, १०; एया १, ८—पत्र १३१)। सांतवण न [सान्तपन] व्रत-विशेष (प्रवो ७३)।

साक देखो साग (दे ६, १३०)।

साकेय न [साकेत] १ नगर-विशेष, अयोध्या (ती ११)। २ वि. गृहस्य-संक्रवी। ३ न. प्रत्याख्यान-विशेष (पव ४)।

साकेय वि [साङ्केत] १ संकेत का, संकेत-संक्रवी। २ न. प्रत्याख्यान का एक भेद (पव ४)।

साग पुं [शाक] १ वृक्ष-विशेष (पउम ४२, ७; दे १, २७)। २ तरु-सिद्ध वड़ा आदि खाद्य; 'सागो सो तक्कसिद्धं जं' (पव २५६)। ३ शाक, तरकारी (पि २०२; ३६४)।

सागडिअ वि [शाकटिक] गाड़ीवान, गाड़ी चला कर निर्वाह करनेवाला (सुर १६, २२३; स २६२; उत ५, १४; था १२)। सागय न [स्वागत] १ शोभन आगमन, प्रशस्त आगमन (नग)। २ अतिथि-सत्कार, आदर, बहू-मान (सुपा २५६)। ३ कुशल (कुमा)।

सागर पुं [सागर] १ समुद्र (पएह १, ३—पत्र ४४; प्रामू १३४)। २ एक राज-पुत्र (उप ६३७)। ३ राजा अन्वकवृण्ण का एक पुत्र (अंत ३)। ४ एक बणिक्-व्यापारी (उप ६४८ टी)। ५ सातवें बलदेव तथा वामुदेव के पूर्व भव के धर्म-गुरु (सम १५३)।

६ पुंन. कूट-विशेष (इक)। ७ समय-परिमाण-विशेष, दश-कोटाकोटि-पत्त्योपम-परिमित काल (नव; ६; जी ३६; पव २०५)। ८ एक देव-विमान (सम २)।

कंत पुंन [कान्त] एक देव-विमान (सम २)। चंद्र पुं [चन्द्र] १ एक जैन आचार्य (काल)। २ एक व्यक्तिवाचक नाम (उव; पडि; राज)।

चित्त पुंन [चित्र] कूट-विशेष (इक)। दत्त पुं [दत्त] १ एक जैन मुनि (सम १५३)। २ तीसरे बलदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५३)। ३ एक श्रेष्ठि-पुत्र (महा)।

४ एक सायंवाह का नाम (विपा १, ७)। ५ हरिषेण चक्रवर्ती का एक पुत्र (महा ४४)। दत्ता वी [दत्ता] १ भगवान् धर्मनायजी की दीक्षा-शिविका (सम १५६)। २ भगवान् विमलनायजी की दीक्षा-शिविका (विचार १२६)।

देव पुं [देव] हरिषेण चक्रवर्ती का एक पुत्र (महा)। वृह पुं [व्यूह] सैन्य की रचना-विशेष (महा)। देखो सायर = सागर।

सागरिअ देखो सागारिय (पिंड ५६८; पव ११२)। सागरोपम पुंन [सागरोपम] समय-परिमाण विशेष, दश-कोटाकोटि-पत्त्योपम-परिमित काल (ठा २, ४—पत्र ६०; सम २, ८; ९; १०; ११; उव; पि ४४८)।

सागार वि [साकार] १ आकार-सहित, आकृतित्वाला। २ विशेषार्थ को ग्रहण करने की शक्ति, विशेष-ग्रहण, ज्ञान (श्रीप; भग;

सम्म ६५)। ३ अत्रवाद-युक्त (भग ७, २—पत्र २६५; उप ७२८ टी)। पस्सि वि [पस्सिन्] ज्ञानवाला (पएण ३०—पत्र ७५६)।

सागार वि [सागार] गृह-युक्त, गृहस्य (आवम)।

सागारि ) वि [सागारिन्, रिक] १ सागारिय ) गृह का मालिक, उपाध्य का मालिक, साधु को स्थान देनेवाला गृहस्य, शय्यातर (पिंड ३१०; आचा २, २, ३, ५; सूत्र १, ६, १६; श्रोष १६६)। २ सूतक, प्रभव और मरण की अशुद्धि, अशोच (सूत्र १, ६, १६)। ३ गृहस्य से युक्त; 'सागारिए उवस्सए' (आचा २, २, १, ४; ५)। ४ न. मैथुन (आचा १, ६, १, ६)। ५ वि.

शय्यातर गृहस्य का, उपाध्य के मालिक से संबन्ध रखनेवाला; 'सागारियं पिंडं भुंजेमाणे' (सम ३६)।

सागेय देखो साकेय = साकेत (एया १, ८—पत्र १३१; उप ७२८ टी)।

साड सक [शाटय्, शातय्] सड़ाना, विनाश करना। हेक. साडेत्तए (विपा १, १—पत्र १६)।

साड पुं [शाट, शात] १ शाटन, विनाश (विसे ३३२१)। २ शाटक, उत्तरीय वस्त्र, चद्दर (पव ३८)। ३ वस्त्र, कपड़ा; 'एगसाडे अदुवा अवेले' (आचा; सुपा ११)।

साडअ ) पुंन [शाटक] वस्त्र, कपड़ा (सुपा साडग ) १५३; राज)।

साडग न [शाटन, शातन] १ विशरण, विनाश (विसे ३३१६; स ११६)। २ छेदन (सूत्रनि ७२)।

साडणा वी [शाटना, शातना] खण्ड-खण्ड होकर गिराने का कारण, विनाश-कारण (विपा १, १—पत्र १६)।

साडिअ वि [शाटित, शातित] सड़ाने गिराया हुआ, विनाशित (सुर १५, ३; दे ७, ८)।

साडिआ वी [शाटिका] वस्त्र, कपड़ा (श्रीप; कप्प)।

साडिअ देखो साड = शाट; 'नियसियमाजाणु-मलियसाडिअ' (सुपा ११)।

साडी ब्री [शाडी] बन्न, कपड़ा (कुप्र ४१२) ।  
साडी ब्री [शकटी] गाड़ी । कम्म पुंन  
[कर्मन्] गाड़ी बनाना, बेचना, चलाना  
आदि शकट-जीविका (उवा; आ २२) ।

साडीया देखो साडिआ; 'जह उल्ला साडीया  
आनुं मुकइ विरल्लिया संती' (विसे ३०३२) ।  
साडोह्य देखो साडअ (राया १, १८—  
पत्र २३५) ।

साण सक [शाणय्] शाण पर चढ़ाना,  
तीक्ष्ण करना । साणिज्जदि (शौ) (नाट) ।

साण पुंनो [शान] १ कुत्ता (पात्र; पएह १,  
१—पत्र ७; प्रासू १३६; हे १, ५२) । ब्री.  
र्णा (मुपा ११४) । २ पुं. छन्द-विशेष  
(पिंग) ।

साण वि [श्यान] निविद, धनीभूत (गा  
६८२) ।

साण पुं [शाण, शान] शत्रु को घित कर  
तीक्ष्ण करने का यन्त्र (गडड; रंनो) ।

साण वि [शाण] सन का बना हुआ, पाट का  
बना हुआ । ब्री, र्णा (दस ५, १, १८) ।

साण देखो सासायण (कम्म ३, २१) ।

साणइअ वि [दे. शाणित] उत्तेजित (दे ८,  
१३) ।

साणय न [शाणक] सन का बना हुआ वन्न  
(ठा ५, ३—पत्र ३३८; कस) ।

साणि ब्री [शाणि] सन का बना हुआ  
कपड़ा (दस ५, १, १८) ।

साणिअ वि [दे] शान्त (पह्) ।

साणी देखो साण = शान ।

साणी ब्री [शाणी] देखो साणि; 'सारोपा-  
वारपिहिथं' (दस ५, १, १८) ।

साणु पुंन [सानु] पर्वत पर का समान भूमि-  
वाला प्रदेश (पात्र; सुर ७, २१४; स ३६५) ।

मंत पुं [मन्] पर्वत (उप १०३१ टी) ।  
लड्डिया ब्री [चष्टिका] ग्राम-विशेष  
(राज) ।

साणुकोस वि [सानुकोश] दयालु (ठा ४,  
४—पत्र २८५; पएह १, ४—पत्र ७२;  
स्वप्न २६; ४६; वसु) ।

साणुपग न [सानुपग] प्रातःकाल, प्रमात-  
सनय (बृह १) ।

साणुबंध वि [सानुबन्ध] निरन्तर, अचिद्ध  
प्रवाहवाला (उप ७७२) ।

साणुवीय वि [सानुवीज] जिसमें उत्पादन-  
शक्ति नष्ट न हुई हो वह बीज (आचा २, १,  
८, ३) ।

साणुवाय वि [सानुवात] अनुकूल पवन-  
वाला (उव) ।

सणुसय वि [सानुशय] अनुताप-युक्त (अभि  
१११; गडड) ।

साणूर न [दे] देव-गृह, देव-मन्दिर (दे ८,  
२४) ।

सात न [सात] १ सुख (ठा २, ४) । २  
वि. सुखवाला । ब्री. ता (पएण ३५—पत्र  
७८६) । विेषणिज्ज न [वेदनीय] सुख  
का कारण-भूत कर्म (ठा २, ४—पत्र ६६) ।

साति देखो साइ = स्वाति, सादि, साचि, साति  
(सम २; ठा २, ३—पत्र ८०; ६—पत्र ३५७;  
जोव १—पत्र ४२; पएह १, २—पत्र २६;  
सम ७१) ।

सातिज्जणया देखो साइज्जणया (ठा ३,  
३—पत्र १४७) ।

साद पुं [साद] श्रवसाद, वेद (दे १, १६८) ।  
सादिव्य वि [सादेव] देवता-प्रयुक्त, देव-कृत  
(पत्र २६८) ।

सादिव्य देखो सादेव्य (पिड ४२७) ।

सादीअ देखो साइय = सादिक (भग; औप) ।

सादीणगंगा ब्री [सादीणगङ्गा] आजीविक  
मत में उक्त एक परिमाण (भग १५—पत्र  
६७४) ।

सादेव्य न [सादिव्य] देव का अनुग्रह—  
सानिध्य; 'सादेव्याणि य देवयान्त्रो करंति  
सच्चवयणे त्याणं' (पएह २, २—पत्र ११४;  
उप ८०३) ।

सादूदूलसड्ड (अप) देखो सदूदूलसड्ड  
(पिंग) ।

साध देखो साह = साधय् । साधेति. (सुज  
१०, १७) ।

साधग देखो साहग (वर्मसं १४२; ३२३) ।

साधम्म देखो साहम्म (वर्मसं ८७७) ।

साधम्मिअ देखो साहम्मिअ (पउम ३५,  
७४) ।

साधारण देखो साहारण = साधारण (वि  
८२) ।

साधारणा ब्री [संधारणा] वासना, वारणा,  
स्मरणशक्ति (सुदि १७६) ।

साधीण देखो साहीण (नाट—मालती १११) ।

सापद (शौ) देखो सावय = थापद (नाट—  
शकु ३०) ।

साफह् } देखो साहह् (विसे २५३२;  
साफह्या } उप ७६८ टी; वर्मवि ६६; स  
७०८; ७०६) ।

सावाह वि [सावाध] आवाधा-सहित (उप  
३३६ टी) ।

साभरग पुं [दे. साभरक] व्याघ्र, सोलह  
आने का सिक्का (पत्र १११) ।

साभव्व देखो साहव्व (विसे १३६) ।

साभाविक } देखो साहाविअ (सुप्रनि १६;  
साभाविय } कप्प; आवक २५८ टी) ।

साम पुंन [सामन्] १ शत्रु को वश करने का  
उपाय-विशेष, एक राज-नीति (राया १,  
१—पत्र ११; प्रासू ६७) । २ प्रिय वाक्य  
(कुमा; महा १४) । ३ एक वेद-शास्त्र (भग;  
कप्प) । ४ मैत्री, मित्रता (विसे ३४८१) ।

५ शक्रा आदि मिष्ट वस्तु; 'महुरपरिखामं  
सामं' (आव १) । ६ सामायिक, संयम-विशेष  
(संबोध ४५); 'सामं नमं च सम्मं इगमवि  
सानाइयस्स एगह्वा' (आव १) । °कोट्टु पुं  
[कोट्ट] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एकोसवें  
जिनदेव (सम १५३) । देखो साभि-कुट्ट ।

साम पुं [श्याम] १ कृष्ण वर्ण, काला रंग ।  
२ हरा वर्ण, नीला रंग । ३ वि. काला वर्ण-  
वाला । ४ हरा वर्णवाला (आचा; कुमा; सुर  
४, ४४) । ५ पुं. परमावामी देवों की एक जाति  
(सम २८; सुप्रनि ७२) । ६ एक जैन मुनि,  
श्यामार्य (सुदि ४६) । ७ न. तृण-विशेष,  
गन्ध-तृण (सुअ २, २, ११) । ८ पुंन.  
आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र ७७६) ।  
°हत्थि पुं [हस्तिन्] भगवान् महावीर  
का शिष्य एक मुनि (भग १०, ४—पत्र  
५०१) ।

सामइअ वि [प्रतीक्षित] जिसकी प्रतीक्षा  
की गई हो वह (कुमा) ।

सामग्र्य देखो सामाग्र्य (विसे २६२४; २६३३; २६३४; २६३६)।

सामग्र्य } पुं [सामयिक] १ एक गृह्य सामग्र्य } का नाम (सूत्रनि १६१)। २ वि. समय-सम्बन्धी (पंच ५, १६६)। ३ सिद्धान्त का जानकार (पिंडभा ६)। ४ आगम-आश्रित, सिद्धान्त-आश्रित (ठा ३, ३—पत्र १५१)। ५ बौद्ध विद्वान् (दसनि ४, ३५)।

सामग्र्य देखो सामाग्र्य (विसे २७१६)।

सामग्र्य वि [सामायिकिन्] सामायिक-वाला (विसे २७१६)।

सामंत पुं [सामन्त] १ निकट, समीप, पास; 'तस्मै एं अदूरसामन्ते' (शाया १, २—पत्र ७८; उवा; कण्)। २ पुं. अश्विन राजा (महा; काल)। ३ अपने देश के अनन्तर देश का राजा, समीप देश का राजा (कण्)।

सामंती स्त्री [दे] सम-भूमि (दे ८, २३)।

सामंतोवणिवाइय न [सामन्तोपनिपातिक] अभिनय का एक नेद (राय ५४)।

सामंतोवणिवाइया स्त्री [सामन्तोपनिपा-सामंतोवणीया ] तिक्ती क्रिया-विशेष, चारों तरफ से इकट्ठे हुए जन-समुदाय में होनेवाली क्रिया—कर्म वत्त का कारण (ठा २, १—पत्र ४०; नव १८)।

सामंतोवायणिय पुं [सामन्तोपपातनिक] अभिनय-विशेष (ठा ४, ४—पत्र २८५)।

सामन्त्र देखो समन्त्र; संभारियं चिय वयणं, 'जं तं अणरणमित्तसामन्त्रं। भणियं अइयकाले' (पउम १०, ८४)।

सामग देखो सामग्र्य = श्यामाक (राज)।

सामग स्रक [शिल्प] आलिङ्गन करना। सामगइ (हे ४, १६०)।

सामग } न [सामग्र्य] सामग्री, संपू-सामगिअ } णंता, सकलता (से ६, ४७; आचा २, १, १, ६; महा)।

सामगिअ वि [शिल्प] आलिङ्गित (कुमा)।

सामगिअ वि [दे] १ चलित। २ प्रव-लम्बित। ३ मालित, रक्षित (दे ८, ५३)।

सामग्री स्त्री [सामग्री] १ समस्तता। २ कारण-समूह (सम्मत् २२४; महा; कण्; रभा)।

सामच्छ स्रक [दे] मन्त्रणा करना, पर्या-लोचन करना। संक्र. सामच्छिऊण (पउम ४२, ३५)।

सामच्छ न [सामच्छे] समर्थता, शक्ति (हे २, २२; कुमा)।

सामच्छण देखो सामत्थण (राज)।

सामज्ज न [साम्राज्य] सार्वभौम राज्य, बड़ा राज्य (उप ३५७ ठी)।

सामण } वि [श्रामण, णिक] श्रमण-सामणिय } संबन्धी (राज)।

सामणिय देखो सामण्य = श्रामण्य (सूत्र १, ७, २३; दस ७, ५६)।

सामणेर पुं [श्रामणि] श्रमण का अपत्य, साधु की संतान (सूत्र १, ४, २, १३)।

सामण्य न [श्रामण्य] श्रमणता, साधुपन (भग; दस २, १; महा)।

सामण्य पुं [सामान्य] १ अणुपत्ती देवों का एक इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५)। २ न. वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध सत्ता पदार्थ (धर्मसं २५६)। ३ वि. साधारण (गा ८६१; ६६६; नाट—रत्ना ८१)।

सामत्थ देखो सामच्छ (दे)। संक्र. सामत्थे-ऊण (काल)।

सामत्थ देखो सामच्छ = सामर्थ्य (हे २, २२; कुमा; ठा ३, १—पत्र १०६; सुपा २८२; प्राप् १४४)।

सामत्थ } न [दे] पर्यालोचन, मन्त्रणा; सामत्थण } 'कास हरामोत्ति अण्ज दव्वं इति सामत्थं करंति गुज्जं' (पण्ह १, ३—पत्र ४६; पिंड १२१; वृह १)।

सामन्न देखो सामण्य = श्रामण्य (भग; कण्; सुर १, १)।

सामन्न देखो सामण्य = सामन्य (उव; स ३२५; धर्मवि ५६; कम्म १, १०; ३१)।

सामय स्रक [प्रति + ईक्ष्] प्रतीक्षा करना, वाट जोहना (हे ४, १६३; पड्)।

सामय पुं [श्यामाक] धान्य-विशेष, चावा (हे १, ७१; कुमा)।

सामरि पुं स्त्री [दे. शात्मलि] शात्मली वृक्ष, सेमर का पेड़ (दे ८, २३; पात्र)।

सामरिस वि [सामर्ष] ईर्ष्यालु, असहिष्णु (सुर २, ६०)।

सामल वि [श्यामल] १ काला, कृष्ण वर्ण-वाला (से १, ५६; सुर ३, ६५; कुमा)। २ पुं. एक वणिग्—वनिया (सुपा ५५५)।

सामलइअ वि [श्यामलित] काला क्रिया हुआ (से ८, ६६)।

सामलय वि [श्यामलक] १ काला। २ काला पानीवाला (से १, ५६)। ३ पुं. वनस्पति-विशेष (राज)।

सामला स्त्री [श्यामला] १ कृष्ण वर्णवाली स्त्री। २ सोलह वर्ष की स्त्री, श्यामा-वज्रा (११२)।

सामलि पुं स्त्री [शात्मलि] सेमल का गाछ (सूत्र १, ६, १८; उव; श्रौप)।

सामलिय देखो सामलइअ (सुर ४, १२७)।

सामली देखो सामला (गजड; गा १२३; २३८; ७६४; सुपा १८५)।

सामलेर पुं [शावलेय] कावचित्त गौ—चित्त-कवरी गाय का वत्स (अणु २१७)।

साम स्त्री [श्यामा] १ तेरहवें जिनदेव की माता (सम १५१)। २ तृतीय जिनदेव की प्रथम शिष्या (सम १५२)। ३ रात्रि, रात (सूत्र २, १, ५६; से १, ५६; श्रौच ३८७)। ४ शक्र की एक अग्र-महिषी—गटरानी (पउम १०२, १५६)। ५ प्रियंशु वृक्ष (पण्ह १—पत्र ३३; १७—पत्र ५२६; अनु ४)। ६ एक महौपधि (ती ५)। ७ लता-विशेष, साम-लता (श्रौप)। ८ सोम लता (से १, ५६)। ९ नारी, स्त्री (से १, ५६; अणु १३६)। १० श्याम वर्णवाली स्त्री (कुमा)। ११ सोलह वर्ष की उम्रवाली स्त्री (वज्रा १०४)। १२ सुन्दर स्त्री, रमणी (से १, ५६; गजड)। १३ यमुना नदी। १४ नील का गाछ। १५ गुग्गुल का गाछ। १६ गुह्वी, गला। १७ गुन्द्रा। १८ कृष्णा। १९ अम्बिका। २० कस्तूरी। २१ वटपत्ती। २२ वन्दा की लता। २३ हरी पुनर्वा। २४ पिप्पली का गाछ। २५ हरिद्रा, हलदी। २६ नील दूर्वा। २७ तुलसी। २८ पद्मवीज।

२६ नौ, नैया । ३० छाया । ३१ शिसपा, सोसम का पेड़ । ३२ पक्षि-विशेष (हे १, २६०) । स पुं [°श] रात्रि-भोजन (सूत्र २, १, ५६; आचा १, २, ५, १) ।

सामाइअ न [सामायिक] संयम-विशेष, सम-भाव, राग-द्वेष-रहित अवस्थान (विसे २६७६; २६८०; २६८१; २६६०; कस; श्रौष; नव) ।

सामाइअ वि [सामाजिक] समाज का, समूह से संबन्ध रखनेवाला, सम्य (उत्त ११, २६; सुख ११, २६) ।

सामाइअ वि [श्यामायित] रात्रि-सदृश (गो ५६०) ।

सामाग पुं [श्यामाक] भगवान् महावीर के समय का एक गृहस्थ, जिसके ऋजुवालिका नदी के किनारे पर स्थित क्षेत्र में भगवान् महावीर को केवलज्ञान हुआ था (कप्प) । देखो सामाय = श्यामाक ।

सामाजिअ देखो सामाइअ = सामाजिक (हास्य ११८) ।

सामाण देखो समाण = समान; 'लोहो हलि-हलंजणकहमकिमिरागसामाणो' (कम्म १, २०; पुष्क २८७) ।

सामाण पुंन [सामान] एक देव-विमान (सम ३३) ।

सामाणिअ वि [सामानिक] १ संनिहित, निकट-वर्ती, नजदीक में स्थित (विसे २६७६) । २ पुं. इन्द्र के समान ऋद्धिवाले देवों की एक जाति (सम ३७; ठा ३, १—पत्र ११६; उवा; श्रौष; पचम २, ४१) ।

सामाय अक [श्यामाय] काला होना । सामाइ, सामायइ, सामायति (गउड) । वक-सामायंत (गउड) ।

सामाय देखो सामय = श्यामाक (राज) ।

सामाय पुं [सामाय] संयम-विशेष, सामायिक (विसे १४२१; संबोध ४५) ।

सामायारि वि [समाचारिन्] आचरण करनेवाला (उव) ।

सामायारी की [सामायारी] चाधु का आचार—क्रिया-कलाप (गच्छ १, १५; उव; उप ६६६) ।

सामास देखो सामा-स = श्यामा-श ।

सामासिय वि [सामासिक] समास-संबन्धी (अणु १४७) ।

सामि } वि [स्वामिन्] १ नायक, अवि-  
सामिअ } पति । २ ईश्वर, मालिक (सम ८६; विपा १, १ टी—पत्र ११; उव; कुमा प्रासू ८८) । बी. °णी (महा) । ३ पुं. प्रभु, भगवान् (कुमा १, १; ७, ३७; सुपा ३५) । ४ राजा; नृप । ५ भर्ता, पति (महा) । ६ कुट्ट पुं [°कुट्ट] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एककीसवें जित-देव (पत्र ७) । देखो साम-कोट्ट । ७ त्त न [°त्व] मालकियत, आधिपत्य (सम ८६; सं २२) । ८ पुर न [°पुर] नगर-विशेष (उप ५६७ टी) ।

सामिअ वि [दे] दग्ध, जलाया हुआ (दे ८, २३) ।

सामिअ वि [शमित] शान्त किया हुआ (सुपा ३५) ।

सामिद्धि की [समृद्धि] १ श्रति संपत्ति । २ वृद्धि (प्राप्र; हे १, ४४; कुमा) ।

सामिधेय न [सामिधेय] काष्ठ-समूह (अंत ११; स ५६१) ।

सामिली न [स्वामिलिन्] १ गोत्र-विशेष, जो वत्स गोत्र की एक शाखा है । २ पुंकी. उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) ।

सामिसाल देखो सामि (पउम ८, ६८; सुपा २६३; भवि. सण) । बी. °ली (स ३०६) ।

सामिधेय देखो सामिधेय (स ३४०; ३४४; महा) ।

सामीर वि [सामीर] समीर-संबन्धी (गउड) ।

सामंडुअ पुं [दे] तृण-विशेष, वरु तृण, जिसकी कलम की जाती है (पाप्र) ।

सामुग्ग वि [सामुद्ग] संपुटाकारवाला; 'सामुग्गनिमग्गसूडजाणू' (श्रौष) ।

सामुच्छेइय वि [सामुच्छेदिक] वस्तु को एकान्त क्षणिक माननेवाला एक मत और उसका अनुयायी (ठा ७—पत्र ४१०; विसे २३८६) ।

सामुदाइय वि [सामुदायिक] समुदाय का, समुदाय से संबन्ध रखनेवाला (णाय १, १६—पत्र २०८) ।

सामुदाणिय वि [सामुदानिक] १ मित्रा-संबन्धी, मित्रा से लज्ज (ठा ४, १—पत्र २१२; सूत्र २, १, ५६) । २ मित्रा, भैत्र (भग ७, १ टी—पत्र २६३) ।

सामुह पुं [दे] इधु-समान तृण-विशेष (दे ८, २३) ।

सामुह } वि [सामुद्र, °क] १ समुद्र-  
सामुहय } सम्बन्धी, सागर का (णाय १, ८—पत्र १४५; भग ५, २—पत्र २११; वस ३, ८) । २ न. छन्द-विशेष (सूत्रनि १३६) ।

सामुद्धिअ न [सामुद्रिक] १ शास्त्र-विशेष, शरीर पर के चिहों का शुभाशुभ फल बतलानेवाला शास्त्र (श्रा १२) । २ शरीर की रेखा आदि चिह; 'सामुद्धियलक्खणाय लक्खंपि' (संबोध ४२) । ३ वि. सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता (कुप्र ५) ।

सामुयाणिय देखो सामुदाणिय (उत्त १७, १६) ।

साय देखो साइज्ज = स्वाद, सात्मी + कृ । सायए (आचा २, १३, १), साएज्जा (वव १) ।

साय देखो साग = शाक; 'भोत्तव्वं संजएण समियं न सायसुयादिकं' (परह २, ३—पत्र १२३; परण १—पत्र ३४) ।

साय न [सात] १ सुख (भग; उव) । २ सुख का कारण-भूत कर्म (कम्म १, १३; ५५) । ३ एक देव-विमान (सम ३८) ।

°वाइ वि [°वादिन्] सुख-देवन से ही सुख की उत्पत्ति माननेवाला (ठा ८—पत्र ४२५) ।

°वाहण पुं [°वाहन] एक प्रसिद्ध राजा (काल) । °गारव पुंन [°गौरव] १ सुख-शीलता (सम ८) । २ सुख का गर्व (राज) ।

°सुक्ख न [°सौख्य] श्रतिशय सुख (जीव ३) । देखो सात = सात ।

साय पुं [स्वाइ] रस का अनुभव (विसे ७६६; पउम ३३, १०; उप ७६८ टी) ।

साय न [दे] १ महाराष्ट्र देश का एक नगर । २ दूर (दे ८, ५१) ।

सायं अ [सायम्] १ सन्ध्या-समय, शाम (पाप्र; गउड; कप्प) । २ सत्य, सच्चा (ठा

१०—पत्र ४६५) । °कार पुं [°कार] १ सत्य । २ सत्य-करण (ठा १०—पत्र ४६५) । °तण वि [°तण] सन्ध्या-समय का (विक्र १६) ।

सायंदूर न [दे] नगर-विशेष (दे न. ५१ टी) । सायंदूला बी [दे] केतकी, केवड़े का गाछ (दे न. २५) ।

सायकुंभ न [शातकुंभ] १ सुवर्ण, सोना । २ वि. सुवर्ण का बना हुआ (सुपा २०१) ।

सायग पुं [सायक] बाण, तीर (सुपा ६५१) ।

सायग वि [स्वादक] स्वाद लेनेवाला (दस ४, २६) ।

सायणा बी [शातना] खण्डन, छेदन (सम ५८) ।

सायणी बी [शायनी, स्वापनी] मनुष्य की दस दशाओं में दसवीं—६० से १०० वर्ष की उम्रवाली—दशा (तंडु १६) ।

सायत्त वि [स्वायत्त] स्वाधीन, स्वतन्त्र (स २७६) ।

सायय देखो सायग (पात्र; स ५४८) ।

सायर पुं [सागर] १ समुद्र (सुपा ५६; ८८; बी ४४; गडड; प्राप् ८७; १४४; प्राप्र; हे २, १८२) । २ ऐतत्त वर्ष में होनेवाले चौथे जिन-देव (पत्र ७) । ३ मृग-विशेष । ४ सन्ध्या-विशेष (प्राप्र) । ५ एक सेठ का नाम (सुपा २८०) । °घोस पुं [°घोष] एक जैन मुनि जो आठवें बलदेव के पूर्वजन्म में गुरु थे (पत्र २०, १६३) । °भद्र पुं [°भद्र] इन्द्राकुर्वश का एक राजा (पत्र ५, ४) । देखो सागर = सागर ।

सायर वि [सादर] आदर-युक्त (गडड; सुर २, २४५) ।

सायार देखो सागार = साकार (सन्न ६४; पत्र ६, ११८) ।

सार सक [प्र + ह्] प्रहार करना । सारइ (हे ४, ८४) । वक्र. सारंत (कुमा) ।

सार सक [स्मारय्] याद दिलाना । सारे (वव १) ।

सार सक [सारय्] १ ठीक करना, दुस्त करना । २ प्रत्यात करना, प्रसिद्ध करना ।

३ प्रेरणा करना । ४ उन्नत करना, उच्छृंखलना । ५ सिद्ध करना । ६ अन्वेषण करना, खोजना । ७ सरकाना, दिसकाना, एक स्थान से अन्य स्थान में ले जाना । सारइ (सुपा १५४), सारंति, सारयइ (सुप्र १, २; २, २६; २, ६, ४); 'सारंति वीर्यं' (स ३०६), सारेह (सुप्र १, ३, ३, ६) । कर्म. 'हंसाण सरंहि सिरि सारिज्जइ अह सराण हंसेहि' (गा ६५३; काप्र ८६२) । क्वक. सारिज्जंत (सुपा ५७) ।

सार सक [स्वरय्] १ बुलवाना । २ उच्चारण-योग्य करना । सारंति (विसे ४६३) ।

सार वि [शार] १ शबल, चितकवरा (पात्र; गडड ३७८; ५३०) । २ पुं. सार, पासा, खेलने के लिए काठ आदि का चौपहल रंगविरंगा सांचा (सुपा १५४) ।

सार पुं [सार] १ धन, दौलत (पात्र; से २, १; २६; मुद्रा २६७) । २ न्याय्य, न्याय-युक्त; 'एयं तु नाणियां सारं जं न हित्तइ किचण' (सुप्र १, १, ४, १०) । ३ बल, पराक्रम (पात्र; से ३, २७) । ४ परमार्थ (आचानि २३६) । ५ प्रकर्म (आचानि २४०) । ६ फल (आचानि २४१) । ७ परिणाम (ठा ४, ४ टी—पत्र २८३) । ८ रस, निचोड़ (कप्पु) । ९ एक देव-विमान (देवेन्द्र १४३) । १० स्थिर अंश (से ३, २७; गडड) । ११ पुं. वृक्ष-विशेष (पण १—पत्र ३४) । १२ छन्द-विशेष (पिंग) । १३ वि. श्रेष्ठ, उत्तम; 'वह चंदो ताराणं गुणाण सारा वहेह दया' (धम्मो ६; से २, २६) । °कंता बी [°कान्ता] पड्ड ग्राम की एक भूखंडा (ठा ७—पत्र ३६३) । °य वि [°द] सार देनेवाला (से ६, ४०) । °वइ बी [°वती] छन्द विशेष (पिंग) । °वंत वि [°वत्] सार-युक्त (ठा ७—पत्र ३६४; गडड) । °वंती देवो °वई (पिंग) ।

सारइय वि [शारदिक] शब्द ऋतु का (उत्त १०, २८; पण १७—पत्र ५२६; ती ५; उवा) ।

सारंग वि [शार्ङ्ग] १ सींग का बना हुआ । २ न. वनस्पति । ३ आर्द्रक, आदी (हे २,

१००; प्राप्र) । ४ विष्णु का वनस्पति (हे २ १००; सुपा ३४८) । °पाणि पुं [°पाणि] विष्णु (प्राप्र २७) ।

सारंग पुं [सारंग] १ सिंह, मृगेन्द्र (सुर १, ११; सुपा ३४८) । २ चातक पत्ती (पात्र; से ६, ८२) । ३ हरिण, मृग (से ६, ८२; कप्पु) । ४ हाथी । ५ भ्रमर । ६ छत्र । ७ राजहंस । ८ चित्र-मृग, चितकवरा हरिण । ९ वाद्य-विशेष । १० शंख । ११ मयूर । १२ वनस्पति । १३ केश । १४ आभरण, अलंकार । १५ वस्त्र । १६ पत्र, कमल । १७ चन्दन । १८ कपूर । १९ फूल । २० कोयल । २१ मेघ (सुपा ३४८) । °रूपक, °रूपक (अप) पुं [°रूपक] छन्द-विशेष (पिंग) ।

सारंग न [साराङ्ग] प्रवान दल, श्रेष्ठ अवयव (पण २, ५—पत्र १५०; सुपा ३४८) ।

सारंगि पुं [शार्ङ्गिन्] विष्णु, श्रीकृष्ण (कुमा) ।

सारंगिका } बी [सारङ्गिका] छन्द-विशेष  
सारंगिका } (पिंग) ।

सारंगी बी [सारङ्गी] १ हरिणी (पात्र) । २ वाद्य-विशेष (सुपा १३२) ।

सारंभ देखो संरंभ (ठा ७—पत्र ४०३) ।

सारकल्याण पुं [सारकल्याण] बलयाकार वनस्पति-विशेष (पण १—पत्र ३४) । देखो सालकल्याण ।

सारकत्व सक [सं + रक्ष्] परिपालन करना, अच्छी तरह रक्षण करना । सारकत्वइ (तंडु १३) । वक्र. सरकत्वंत, सारकत्वमाग (पि ७३; उवा) ।

सारकत्वण न [संरक्षण] सम्यग् रक्षण, बाण (णया १, २—पत्र ६०; सुप्र १, ११, १८; औप) ।

सारकत्वणया बी [संरक्षणा] ऊपर देखो (पि ७६) ।

सारखिख वि [संरक्षिन्] संरक्षण-कर्ता (पि ७६) ।

सारखिखअ वि [संरक्षित] जिसका संरक्षण किया गया हो वह (पण २, ४—पत्र १३०) ।

सारखेत्तु वि [ संरक्षितृ ] संरक्षण-कर्ता  
(ठा ७—पत्र ३६३) ।

सारग देवो सारय = स्मारक (आचा;  
श्रीय) ।

सारज्ज न [ स्वाराज्य ] स्वर्ग का राज्य (विसे  
१८८३) ।

सारण पुं [ सारण ] १ एक वादव-कुमार  
(अंत ३; कुप्र १०१) । २ रावणाधीन एक  
सामन्त राजा (पठम ८; १३३) । ३ रावण  
का मन्त्री (से १२, ६४) । ४ रावण का  
एक सुभट (से १४, १३) । ५ न. से जाना,  
प्रापण (श्रीय ४४८) ।

सारण न [ स्मारण ] १ याद कराना (श्रीय  
४४८) । २ वि. याद दिलानेवाला । लो.  
°णिया, °णी (ठा १०—पत्र ४७३) ।

सारणा न [ स्मारणा ] १ याद दिलाना (सुर  
१५, २४८; विचार २३८; काल) ।

सारणि } लो [ सारणि, °णी ] १ आलवाल,  
सारणी } नीक, कियारी (शृण २६; कुप्र  
५८) । २ परंपरा (सम्मत ७७) ।

सारथ्य न [ सारथ्य ] सारथिवन (खाया  
१, १६; पठम २४, ३८) ।

सारदा देवो सारया (रंन) ।

सारदिअ देवो सारइय (अनि ६६) ।

सारमिअ वि [ दे ] स्मारित, याद कराया  
हुआ (दे ८, २५) ।

सारमेअ पुं [ सारमेय ] धान, कुत्ता (उप  
७६८ वी; कुप्र ३६३; सम्मत १८३; प्राप्  
१५८) ।

सारमेई लो [ सारमेयी ] कुत्ता, शुनो (सुर  
१४; १५५) ।

सारय वि [ शारद ] शरद ऋतु का (सम  
१५३; पण्ड १, ४—पत्र ६८; विसे १४६३;  
अनि १३; कप्य; श्रीय) ।

सारय वि [ सारक ] १ श्रेष्ठ करनेवाला (से  
३, ४८) । २ सावक, सिद्ध करनेवाला (कप्य;  
से ३, ४०) ।

सारय वि [ स्मारक ] १ याद करनेवाला । २  
याद दिलानेवाला (नग; आचा १, ४, ४, १;  
कप्य) ।

सारय वि [ स्वारत् ] प्राप्त, ब्रूव लीन  
(आचा १, ४, ४, १) ।

सारय देवो सारय ।

सारया लो [ शारदा ] सरस्वती देवी (सम्मत  
१४०) ।

सारय देवो सार = सारय । नवि. सारविस्तं  
(वव १) ।

सारय सक [ समा + रच् ] साफ करना,  
ठीक-ठाक करना, दुबस्त करना । सारवइ  
(हे ४, ६५); 'सारवह सयलसरणीप्रो' (सुर  
१५, ८२) । वक्र. सारयंत (गडड) । कवक.  
सारविजंत (सण) ।

सारय सक [ समा + रम् ] शुद्धात करना,  
प्रारम्भ करना । सारवइ (पड्ड) ।

सारयण न [ समारचन ] संमार्जन, साफ  
करना (श्रीय ७३) ।

सारविअ वि [ समारचिन ] दुबस्त किया  
हुआ, साफ किया हुआ (दे ८, ४६; कुमा;  
श्रीयना ८) ।

सारस पुं [ सारस ] १ पक्षि-विशेष (कप्य;  
श्रीय; स्वप्न ७०; कुमा; सण) । २ छन्द-  
विशेष (पिग) ।

सारसी लो [ सारसी ] १ पड्ड ग्राम की एक  
भूखेना (ठा ७—पत्र ३६३) । मादा सारस-  
पत्नी । ३ छन्द-विशेष (पिग) ।

सारस्वय पुं [ सारस्वत ] १ लौकान्तिक देवों  
की एक जाति (खाया १, ८—पत्र १५१;  
पि ३५३) ।

सारह न [ सारध ] मधु, शहद (पाग्र; दे ८,  
२७) ।

सारहि पुं [ सारधि ] रथ हांकनेवाला (सम  
१; पाग्र; महा) ।

साराडि पुं [ दे ] पक्षि-विशेष, शरारि पत्नी  
(दे ८, २४) ।

साराय अक [ साराय ] सार-रूप होना ।  
वक्र. सारायंत (उप ७२८ वी) ।

साराय सक [ सारय ] चिपकवाना, लगवाना,  
सील कराना । संक. 'साराविजण लकलं  
नीरवधंत तव्य कयं' (अमंवि ५) ।

सारि लो [ शारि ] १ पक्षि-विशेष, मैना (गा  
५५२) । २ पासा खेलने का रंग-विरंगा

साचा (गा १३८) । ३ युद्ध के लिए मन-  
पयाण (दे ७, ६१; नवि) ।

सारि देवो सारी (दे) (पाग्र) ।

सारिअ वि [ सारिक ] सारवाला; 'मारोग-  
सारिअं माणुसतणं सच्चसारिअो वम्मो' (था  
१८) ।

सारिअ वि [ सारित ] चिपकाया हुआ, सील  
किया हुआ; ततो कुंभोए निक्खिविजण तीए  
सम्मं मुहं पूरिजण उवरि लक्खाए सारियाए'  
(सम्मत २२६) ।

सारिआ } लो [ सारिका ] मैना, पक्षि-  
सारिआ } विशेष (गा ५८६, पाग्र; दे ८,  
२४) ।

सारिक्ख न [ साट्ठय ] समानता, सरोखाई  
(हे २, १७; कुमा; वमंसं ४२५; समु १८०;  
विसे ४६६) ।

सारिक्ख } वि [ सट्ठय ] समान, सरोखा;  
सारिच्छ } 'सारिक्खविपलंनो तह न्नेदे  
किमिह सारिक्खं' (वमंसं ४२५; समु १७६;  
पाग्र; हे १, ४४; कुमा; गा ३०; ६४) ।

सारिच्छ देवो सारिक्ख = साट्ठय (हे २,  
१७; सुर १२; १२२) ।

सारिच्छिआ लो [ दे ] दूर्वा, दूव (दे ८,  
२७) ।

सारिजंत देवो सार = सारय ।

सारिस देवो सारिस = सट्ठय (संवि २;  
वजा ११४) ।

सारिस } न [ साट्ठय ] समानता, सरोखाई  
सारिस्स } (राज; नाट—रत्ना ७६) ।

सारी लो [ दे ] वृक्ष, ऋषि का आसन (दे ८,  
२२; ३१) । २ मृत्तिका, मिट्टी (दे ८,  
२२ वी) ।

सारी लो [ शारी ] देवो सारि = शारि;  
'सज्जिअो कंचणपुडासारीहि... हल्लो' (कुप्र  
१२०) ।

सारीर वि [ शारीर ] शरीर का, शरीर-संबन्धी  
(उव; सुर ४, ७५) ।

सारीरिय वि [ शारीरिक ] ऊपर देवो (सुर  
१२, १०; सण) ।

साहवि } पुं [ साहपिन्, °क ] जैन साधु  
साहविअ } के समान वेप को धारण करने-  
वाला रजोहरण-व्रजित लो-रहित गृहस्थ,

साधु और गृहस्थ के बीच की अवस्थावाला जैन पुरुष (संबोध ३१; ५४; बृह १; वव ४)।

सारुविभ न [सारुष्य] समान-रूपता (सूत्र २, ३, २; २१)।

सारैच्छ देखो सारिच्छ = सादृश्य (गउड)।

सारोहि वि [सरोहिन्] संरोहण-कर्ता (पि ७६)।

साल पुं [साल, शाल] १ ज्वीतिष्क महाग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)। २ वृक्ष-विशेष: साधू का पेड़ (सम १५२; औप: कुमा)। ३ वृक्ष, पेड़। ४ किला, प्राकार (सुपा ४६७)। ५ एक राजा; 'साल महासाल-सालिभदो य' (पडि)। ६ पत्ति-विशेष (पएह १, १ टो—पत्र १०)। ७ पुंन. एक देव-विमान (सम ३५)। ८ श्रोत्रुय न [श्रोत्रुक] चैत्य-विशेष (राज)। ९ वाहन, १० हण [वाहन] एक सुप्रसिद्ध राजा (विचार ५३१; हे १. २११; प्राप: पि २४४; पड; कुमा)।

साल देखो सार = सार (सुपा ३८४; णाया १, १६—पत्र १६६)। १ इय वि [चित्त] सार-युक्त (णाया १, १६)।

साल न [शाला] घर, गृह: 'मायामहसालं पि हु कालेण सयलमुच्छन्नं' (सुपा ३८४)।

साल पुं [श्याल] साला, बहू का भाई (मोह ८८; सिरि ६८८; भवि: नाट—मृच्छ ३५)।

साल पुं. देखो साला = (दे): 'जस्त सालस्त भग्गस्स'; 'परित्तजीवे उ से साले' (पएण १—पत्र ३७; ठा ८—पत्र ४२६)। १ मंत वि [वन्] शाखावाला (णाया १, १ टो—पत्र ४; औप)।

साल° देखो साला = शाला। १ गिह, १० घर न [गृह] १ भित्ति-रहित घर (निचू ८)। २ वरामदावाला घर (राय)।

सालइय देखो सारइय = शारदिक (णाया १, १६—पत्र १६६)।

सालंकायण न [शालङ्कायन] १ कौशिक गोत्र का एक शाखा-गोत्र। २ पुंजी. उस गोत्रवाला (ठा ७—पत्र ३६०)।

सालंकी व्री [दे] सारिका, मैना (दे ८, २४)। सालंगणी व्री [दे] सीढ़ी, नि:श्रेणी (दे ८, २६; कुप्र १२०)।

सालंय वि [सालम्ब] श्रवतम्बन-युक्त, आश्रय-युक्त (गउड; राज)।

सालकल्लाण पुं [शालकल्याण] वृक्ष-विशेष (भग ८, ३ टो—पत्र ३६४)। देखो सारकल्लाण।

सालकिआ व्री [दे] सारिका, मैना (पड)। सालग न [दे] १ वृक्ष को बाहरी छाल (निचू १५)। २ लम्बी शाखा (आव १)। ३ रस: 'श्रवसालगं वा श्रवदालगं वा भोत्तए वा पायए वा' (आचा २, ७, २, ७)।

सलणय न [सारणक] कढ़ी के समान एक तरह का खाद्य (भवि)।

सालभंजी देखो सालहंजी (धर्मि १४७; कुमा)।

सालस वि [सालस] शालस्य-युक्त, श्रलसी (गउड; सुपा २५१)।

सालहंजिया } व्री [शालभञ्जिका, सालहंजी } १ ज्जी काष्ठ आदि की बनाई हुई पुतली (सुपा ४३; ५४)।

सारहिआ } व्री [दे] सारिका, मैना (पात्र: सालही } आ २८; दे ८, २४)।

साला व्री [शाला] १ गृह, घर। २ भित्ति-रहित घर (कुमा; उप ७२८ टो)। ३ छन्द-विशेष (पिग)।

साला व्री [दे] शाला (दे ८, २२; पएह १, ३—पत्र ५४; दस ७, ३१; राय ८८)।

सालाइय देखो सलाग (राज)।

सालाणय वि [दे] १ स्तुत, जिसकी स्तुति की गई हो वह। २ स्तुत्य, स्तुति-योग्य (दे ८, २७)।

सालाहण देखो सालाहण = शाल-वाहन।

सालि पुंन [शालि] १ व्रीहि, घान, चावल (सूत्र २, २, ११; गा ५६६; ६६१; कुमा; गउड)। २ वलयाकार वनराति-विशेष, वृक्ष-विशेष (पएण १—पत्र ३४)। ३ भद्र पुं [भद्र] एक प्रसिद्ध श्रेष्ठि-पुत्र, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (उव: पडि)। ४ भसेल, ५ भसेह पुं [दे] घान

के कणिश—वाल का तीक्ष्ण अग्रभाग (राज: उवा)। १ रक्खिआ व्री [रक्षिका] घान का रक्षण करनेवाली व्री, कलम-गोपी (पात्र)। २ वाहण पुं [वाहन] एक सुप्रसिद्ध राजा (समत्त १३७)। देखो साल-वाहण। ३ सच्छिय पुं [साक्षिक] मत्स्य की एक जाति (पएण १—पत्र ४७)। ४ सिस्थ पुं [सिक्थ] मत्स्य-विशेष (आरा ६३)।

सालि वि [शालिन्] शोभनेवाला (गउड; कुमा)।

सालिआ व्री [शालिका] घर का कमरा, 'एहिह सुवंति घरमणिकमसालिआसु' (कप्पू)।

सालिआ देखो साडिआ (राज)।

सालिणिआ } व्री [शालिनिआ, १० नी] १ सालिणी } शोभनेवाली; 'पीणसोणिय-णसालिणिआहि' (अजि २६)। २ छन्द-विशेष (पिग)।

सालिभंजिया व्री [शालिभञ्जिका] पुतली (पउम १६, ३७)।

सालिय पुं [शालिक] तन्तुवाय, जुलाहा (विते २६०१)।

सालिय वि [शालमलिक] शालमलि वृक्ष का, सेमल के गच्छ का; 'एणं सालियापोंडं बद्धो आमेलगो होइ' (उत्तनि ३)।

सालिस देखो सारिस = सदश (णाया १, १—पत्र १३; ठा ४, ४—पत्र २६५; कप)।

सालिहीपिउ पुं [शालिहीपित्त] एक जैन गृहस्थ (उवा)।

साली व्री [श्याली] पत्नी-भगिनी, भायाँ की बहन (दे ६, १४८)।

सालुअ पुंन [शालूक] जल-कन्द विशेष, कमल-कन्द (आचा २, १, ८, ३; दस ५, २, १८)।

सालुअ न [दे] १ शम्भूक, शंख। सूले यव आदि धान्य का अग्र भाग (दे ८, ५२)।

सालूर पुंन [शालूर] १ भेक, भेदक (पात्र; सुर २, ७४; सुगा ६२; सार्व १०६; सूक २०)। २ व्री. १ री (गा ३६१)। २ न. छन्द-विशेष (पिग)।



साव सक [श्रावय्] सुनाना । सावेंति (श्रौप) । वक्र. सावेंन, सावित, सावेंत (श्रौप; राज; पउम १०, ५७) ।

साव पुं [शाप] १ सराप, आक्रोश (श्रौप; कुमा; प्रति ६६) । २ शपथ, सौगंध (प्राप्र; हे १, २३१) ।

साव पुं [शाव] बालक, वचा (समु १५६; प्राकृ ८५) ।

साव पुं [स्वाप] स्वपन, शयन, सोना (विसे १७५५) ।

साव (अप) देखो सत्र्य = सर्व (हे ४, ४२०) ।

सावइज्ज देखो सावएज्ज (कप्प) ।

सावइत्तु वि [श्रावयित्] सुनानेवाला (सूत्र २, २, ७६) ।

सावएज्ज न [स्वापतेय] धन, द्रव्य (कप्प) ।

सावक्क न [सापत्त्य] सपत्नीपन, सौत्तिनपन (कुप्र २५५) ।

सावक्क वि [सापत्न] सौतेली माँ की संतान (वमंवि ४७) ।

सावक्का स्त्री [सपत्नी] सौतेली माँ, विमाता; गुजराती में 'सावकी'; 'सावक्का सुयजणणी पासत्वा गहिय वायए लेह' (वमंवि ४७) ।

सावग पुंन [श्रावक] १ जैन उपासक, अहं-भक्त गृहस्थ (ठा १०—पत्र ४६६; उवा; णाया १, २—पत्र ६०) । २ ब्राह्मण । ३ वृद्ध श्रावक (णाया १, १५—पत्र १६३; ग्रणु २४); 'तत्रो सागरचंदो कमलामेला य... गहियाणुव्वयाणि सावगाणि संबुत्ताणि' (आक ३१) । ४ वि. सुननेवाला । ५ सुनानेवाला (हे १, १७७) । ६ धम्म पुं [धर्म] प्राणतिपात-विरमण आदि वारह व्रत, जैन गृहस्थ का धर्म (णाया १, १४—पत्र १६१) ।

सावज्ज वि [सावज्] पाप-युक्त, पापवाला (भग; उव; श्रौष ७६३; विसे ३४६६; सुर ४, ८२) ।

सावण न [श्रावण] १ सुनाना (उप ७२८ टी; नुपा २८८) । २ पुं. मास-विशेष, नावन का महीना (पउम ६७, ७; कप्प; हे ४, ३५७; ३६६) । ३ वि. श्रवणोन्द्रिय-सम्बन्धी, श्रावण-प्रत्यक्ष का विषय, जो कान से सुना जाय वह (धर्मं १२८१) ।

सावणा स्त्री [श्रावणा] सुनाना (कुप्र ६०) । सावणी स्त्री [स्वापनी] देखो सायणी (ठा १०—पत्र ५१६) ।

सावतेज्ज } देखो सावएज्ज (णाया १, १—  
सावतेय } पत्र ३६; श्रौष; सूत्र २, १,  
३६) ।

सावत्त देखो सावक्क (दे १, २५; भवि; सिरि ४६; कप्प) ।

सावत्थिगा स्त्री [श्रावत्थिका] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प—पृ ८१) ।

सावत्थी स्त्री [श्रावस्ती] कुणाल. देश की प्राचीन राजधानी (णाया १, ८—पत्र १४०; उवा) ।

सावन्न (अप) देखो सामन्न = सामान्य (भवि) ।

सावय देखो सावग (भग; उवा; महा); 'एयं कहेहि सुंदर सवित्थरं सच्चसावयो तुहयं' (पउम ५३, २६) ।

सावय पुं [श्रापद] शिकारी पशु, हिंसक जानवर (णाया १, १—पत्र ६५; गउड; प्रासू १५४; महा; सण) ।

सावय पुं [दे] १ शरभ, श्रापद पशु-विशेष (दे ८, २३) । २ वालों की जड़ में होनेवाला एक तरह का छुद्र कोट (जी १६) ।

सावय पुं [श्रावक] बालक, वचा, शिशु (नाट) ।

सावरी स्त्री [श्रावरी] विद्या-विशेष (सूत्र २, २, २७) ।

सावसेस वि [सावशेष] अवशिष्ट, बाकी वचा हुआ; 'जवाऊ सावसेस' (उव) ।

सावहाण वि [सावधान] अवधान-युक्त, सचेत (नाट; रंभा) ।

साविअ वि [शापित] १ जिसको शाप दिया गया हो वह । २ जिसको सौगंध दिया गया हो वह (णाया १, १—पत्र २६; भग १५—पत्र ६८२; स १२६) ।

साविअ वि [श्रावित] सुनाया हुआ (भग १५—पत्र ६८२; णाया १, १—पत्र २६; पउम १०२, १५; ६६; सार्ध १८) ।

साविआ स्त्री [श्राविका] जैन गृहस्थ-वर्म पालनेवाली स्त्री (भग; णाया १, १६—पत्र २०४; कप्प; महा) ।

साविकख वि [सापेक्ष] अपेक्षा-युक्त, अपेक्षा-वाला (था ६; संबोव ४१) ।

साविगा देखो साविआ (ठा १०—पत्र ४६६; णाया १, २—पत्र ६०; महा) ।

साविट्ठी स्त्री [श्राविष्टी] १ श्रावण मास की पूर्णिमा । २ श्रावण की अमावस (सुज १०; ६; इक) ।

सावित्ती स्त्री [सावित्री] ब्रह्मा की पत्नी (उप ५६७ टी; कुप्र ४०३) ।

साविह पुं [श्राविध] श्रापद पशु-विशेष, साहो (दे २, ५०; ८, १५) ।

सावेक्ख देखो साविकख (पउम १००, ११; उप ८७०) ।

सास सक [शास] १ सजा करना । २ सीख देना । ३ हुकुम करना । भूका. सासित्वा (कुप्र १४) । कर्म. सासिजइ, सोसइ (नाट—मृच्छ २००, कुप्र ३६६) । वक्र. सास, सासंत (उत्त १, ३७; श्रौष; पि ३६७) । इ. सासणीअ (नाट—विक्र १०४) । कवक. सासिजंत (उप १४६ टी) ।

सास सक [कथय] कहना । सासइ (पड्) । कर्म. सासइ (प्राकृ ७७) ।

सास पुं [श्रास] १ सास (गा १४१; १४७) । २ रोग-विशेष, श्रास-रोग (णाया १, १३—पत्र १८१; उवा; विपा १, १) । ३ हरा स्त्री [धरा] जीवन वारण करनेवाली (दश० वृ० हारि० पत्र ६४, २) ।

सास पुंन [शस्य, सस्य] १ क्षेत्र-गत धान्य (पएह १, ४—पत्र ७२; स १३१); 'सासा श्रकिट्टजाया' (पउम ३३, १४) । २ वृक्ष आदि का फल । ३ वि. वध-योग्य (हे १, ४३) । देखो सरस = शस्य ।

सासण पुंन [सस्यक] रत्न की एक जाति, 'पुलगवइरिदनीलसासणककेयणलोहियक्ख' (कप्प) ।

सासण पुं [सासक] वृक्ष-विशेष, वीयक नाम का पेड़ (णाया १, १—पत्र २४) ।

सासण न [शासन] १ द्वादशांगी, वारह जैन श्रंग-ग्रन्थ, आगम, सिद्धान्त, शास्त्र; 'अणु-सासणमेव पक्कमे' (सूत्र १, २, १, ११; अणु ३८; सम्म १; विसे ८६४) । २ प्रतिपादन (एदि; उप ३ ३७४) । ३ शिखा, सीख

(अणु) । ४ ग्राजा, हुकुम (पएह २, १—पत्र १०१; महा) । ५ ग्रास, निर्वाह-साधन; 'जीवंतसामिपडिमाए सासणं विअरिअण भत्तोए' (कुलक २३) । ६ वि. प्रतिपादक, प्रतिपादन-कर्ता (सम्म १; गण २२; एदि ४८) । ७ प्रतिपाद्य, जिसका प्रतिपादन किया जाय वह (पएह २, १—पत्र ६६) । ८ देवी की [देवी] शासन की अविद्यात्री देवी (कुमा) । ९ सुरा की [सुरी] वही अर्थ (पंचा ८, ३२) ।

सासण देखो सासायण (कम्म २, २; ५; १४; ४, १८; २६; ५, ११; ६, ५६; पंच ३, ४२) ।

सासणा की [शासना] शिक्षा (पएह २, १—पत्र १००) ।

सासणावण न [शासन] आज्ञापन (स ४६३) ।

सासय वि [शादत] नित्य, अविनश्य (भग; पात्र; से २, ३; सुर ३, ५८; प्रासू १४१) ।

सासय पुं [स्वाश्रय] निज का आचार (से २, ३) ।

सासव पुं [सर्पत्र] सर्पों (आचा २, १, ८, ३) । १ नालिया की [नालिका] कन्द-विशेष (आचा २, १, ८, ३) ।

सासवृळ पुं [दे] कपिकच्छू का पेड़, कौंछ, किवाड़, कवाछ (दे ८, २५) ।

सासाण १ न [सास्वादन] १ गुण-स्वानक-सासायण १ विशेष, द्वितीय गुण-स्वान (कम्म ४, १३; ४६) । २ वि. द्वितीय गुण-स्वान में वर्तमान जीव (सम्य १६; सम्म २६) ।

सासि वि [श्वासिन्] श्वास-रोगवाला (तंडु ५०) ।

सासिटु (शौ) वि [शासितृ] शासन-कर्ता, शिक्षा-कर्ता (अनि २१४) ।

सासिह देखो सासि (विपा १, ७—पत्र ७३) ।

सासुया देखो सासु (सुर ६, १५७; ६, २३३; सिरि ६४६) ।

सासुर न [श्वाशुर] श्वशुर-गृह (सुर ८, १६४) ।

सासुर (अप) देखो ससुर = श्वशुर (भवि) ।

सासू की [श्वशू] सासू, पति तथा पत्नी की माता (पात्र; पजम १७, ४; गा ३३६) ।

सासूय वि [सासूय] असूया-युक्त, मत्सरो (सुर ३, १६७; उप ७२८ टी) ।

सासेरा की [दे] यान्त्रिक नाचनेवाली, यन्त्र की बनी हुई नर्तकी (राज) ।

साह सक [कथय, शास] कहना । साहइ, साहेइ (हे ४, २; उव; काल; महा) ।

साहसु, साहेसु (महा) । भवि. साहिस्सइ, साहिस्सामो (महा; आचा १, ४, ४, ४) ।

वक्र. साहंत, साहयंत (हिका ३८; काप्र ३०; सुर ६, १३२) । क्वक. साहिज्जंत, साहिप्पंत, साहियंत, साहियमाण

(चंड; सुर १, ३०; सुपा २०५; चंड; सुपा २६३; उप पृ ४२; चंड) । संक. साहिअण, साहेत्ता (काल) । हेक. साहिउं (काल; महा) । क. साहियव्व, साहेअव्व (महा; सुर १, १५४) ।

साह देखो सलाह = श्लाघ् । क. साहणीअ (प्राप) ।

साह सक [साध] १ सिद्ध करना, बनाना । २ वश में करना । साहइ, साहेइ, साहंति (भग; कप्प; उव; प्रासू २७; महा) । वक्र. साहंत, साहित, साहेमाण (सिरि ६२८; महा; सुर १३; ८२) । क्वक. साहिज्जमाण (नाट) । हेक. साहिउं (महा) । क. साहणिज्ज, साहणीअ, साहियव्व (मा ३६; पजम ३७, ३०; सुर ३, २८) ।

साह पुं [दे] १ बालुका, बालू । २ उलूक, उल्लू । ३ दविसर, दही की मलाई (दे ८, ५१) । ४ प्रिय, पति (संति ४७) ।

साह (अप) देखो सव्व = सर्वं (हे ४, ३६६; कुमा) ।

साहंजय पुं [दे] गोसुर, गोखरू (दे साहंजय ८, २७) ।

साहंजणी की [साभाज्जनी] नगरी-विशेष (विपा १, ४—पत्र ५४) ।

साहग वि [साधक] सिद्ध करनेवाला, साधना करनेवाला (एया १, ८ टी—पत्र १५५; कप्प; नव २५; सुपा ८४; वर्मसं ७०; हि २०) ।

साहग वि [शासक, कथक] कहनेवाला (सुर १२, ३०; स ३६१) ।

साहज्ज न [साहाय्य] सहायता; मदद (विसे २६५८; गण ६; खण १४; सिरि ३६८, कुप्र १२) ।

साहट्ट सक [सं + वृ] संवरण करना, समेटना । साहट्टइ (हे ४, ८२) ।

साहट्टिअ वि [संवृत] समेटा हुआ, संहत किया हुआ, पिडोक्त (कुमा) ।

साहट्टु अ [संहत्य] समेट कर, संकुचित कर; 'दाहिणं जाणु' अरिणतलंसि साहट्टु (कप्प), 'साहट्टु पायं रीएज्जा' (आचा २, ३, १, ६); 'वियडेण साहट्टु य जे सिणाई' (सूअ १, ७, २१) ।

साहट्ट वि [संहृष्ट] पुलकित (राज) ।

साहण सक [सं + हन्] संघात करना, संहत करना, चिपकाना । साहणंति (भग) । कर्म. साहणंति (भग १२, ४—पत्र ५६१) । क्वक. साहणंत, साहणंत (राज; ठा २, ३—पत्र ६२) । संक. साहणित्ता (भग) ।

साहण न [साधन] १ उगाय, कारण, हेतु (विसे १७०६) । २ सैन्य, लश्कर (कुमा; सुर १०, १२१) । ३ वि. सिद्ध करनेवाला; 'जह जीवाण पमाओ अणल्यसयसाहणो होई' (हि १३; सुर ४, ७०) । की. ०णा, ०णी (हे ३, ३१; पड्) ।

साहणण न [संहनन] संघात, अवयवों का आपस में चिपकना (भग ८, ६—पत्र ३६५; १२, ४—पत्र ५६७) ।

साहणिअ पुं [साधनिक] सेना-पति (सुपा २६२) ।

साहणिज्ज देखो साह = साध् ।

साहणी देखो साहण = साधन ।

साहणीअ देखो साह = श्लाघ्, साध् ।

साहणंत देखो साहण = सं + हन् ।

साहणंति अ [स्वहस्तेन] १ अपने हाथ से । २ साक्षात् (एया १, ६—पत्र १६३; उवा) ।

साहणित्था की [स्वाहस्तिकी] क्रिया-विशेष, साहृथी } अपने हाथ से गृहीत जीव आदि द्वारा हिंसा करने से होनेवाला कर्म-बन्ध (ठा २, १—पत्र ४०; नव १८) ।

संहंत्रत देखो साहण = सं + हन् ।

साहम्म न [साधर्म्य] १ समान धर्म, तुल्य धर्म (सम्म १५३; पिड १३६) । २ सादर्य, समानता (विसे २५८६; श्रौष ४०४; पंचा १४, ३५) ।

साहम्मि वि [साधर्मिन्, साधर्मिन्] समान धर्मवाला, एक-धर्मी (पिड १३६; १४६; १४७) ब्री. °णी (आचा २, १, १, १२; महा) ।

साहम्मिअ } वि [साधर्मिक] ऊपर देखो  
साहम्मिग } (श्रौष १५; ७७६; श्रौष; उत्त २६, १; कस; सुपा ११२; पंचा १६, २२) ।

साह्य देखो साह्य = साधक (उप ३६०; च ४५; काल) ।

साह्य देखो साह्य = शासक, कथक (सम्म १४३) ।

साह्य वि [संहृत] संक्षिप्त, समेटा हुआ (परह १, ४—पत्र ७८; श्रौष; तंडु २०) ।

साहर सक [सं + वृ] संवरण करना । साहरइ (हे ४, ८२) ।

साहर सक [सं + हृ] १ संकोच करना, संक्षेप करना, संकेलना, समेटना । २ स्थानान्तर में ले जाना । ३ प्रवेश करना । ४ छिपाना । ५ व्यापार-रहित करना । साहरइ, साहरे, साहरंति (भग ५, ४—पत्र २१८; कप्प; उव; सुग्र १, ८, १७; पि ७६) । साहरिज्ज (भग ५, ४) । भवि. साहरिज्जिस्सामि (कप्प) । कंवक. साहरिज्जमाण (कप्प; श्रौष) । संक्र. साहरित्ता (कप्प) । हेक. साहरित्ताए (भग ५, ४—पत्र २१८) ।

साहरण न [संहरण] एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, स्थानान्तर-नयन (पिड ६०६; ६०७) ।

साहरय वि [दे] गत-मोह, मोह-रहित (दे ८, २६) ।

साहरिअ वि [संहृत] १ स्थानान्तर में नीत (सम ८६; कप्प) । २ अन्यत्र क्षिप्त (पिड ५२०) । ३ संलान किया हुआ, संकोचित (श्रौष) ।

साहरिअ वि [संवृत] संवरण-युक्त (कुमा; पात्र) ।

साहल न [साफल्य] सफलता (श्रौष ७३) । साह्य देखो साहु = साधु; 'अह पेच्छइ साह्ये तहि वालि' (पउम ६, ६१; ७७, ६४) ।

साह्य न [साधय] साधुता, साधुपन (पउम १, ६०) ।

साहव्य न [स्वाभाव्य] स्वभावता, स्वभाव-पन (धर्मसं ६६) ।

साहस न [साहस] १ विना-विचार किया जाता काम (उव; महा) । २ पुं. एक विद्या-घर नरेन्द्र, साहस-गति (पउम ४७, ४७) । °गइ पुं [°गहि] वही अर्थ (पउम ४७, ४५; महा) ।

साहस देखो साहस्स = साहस (राज) ।

साहसि वि [साहसिन्] साहस-कर्म करने-वाला; साहसिक; 'ते चौरा साहसियो उत्तम-सत्ता' (उप ७२८ टी; किरात १४) ।

साहसिअ वि [साहसिक] ऊपर देखो (श्रौष; सुग्र २, २, ६२; चाह ३७; कुप्र ४१६) ।

साहस वि [साहस] १ जिसका मूल्य हजार (मुद्रा, रुपया आदि) हो वह वस्तु (दसनि ३, १३; उव; महा) । २ हजार का परिमाणवाला; 'जोयणसयसाहस्सो वित्थिएणो मेव्वाभीयो' (जीवस १८५) । ३ न. हजार (जीवस १८५) । °मह पुं [°मह] व्यक्ति-वाचक नाम (उव) ।

साहस्सिय वि [साहसिक] १ हजार का परिमाणवाला (साया १, १—पत्र ३७; कप्प) । २ हजार आदमी के साथ लड़नेवाला मल्ल (राज) ।

साहस्सी ब्री [साहस्सी] हजार, दस सौ; 'गिहवाएअ अणेगायो साहस्सीओ समानयो' (उत्त २३, १६; सम २६; उवा; श्रौष, उत्त २२, २३; हे ३, १२३) ।

साहा ब्री [श्रांया] प्रशंसा (सम ५?) ।

साहा अं [स्वाहा] देवता के उद्देश से द्रव्य-त्याग का सूचक शब्द, आहुति-सूचक शब्द (ठा ८—पत्र ४२७; श्रौषभा ५७) ।

साहा ब्री [शाखा] १ एक ही आचार्य की संतति में उत्पन्न अमुक मुनि की सन्तान-परम्परा, अवात्तर संतति (कप्प) । २ वृक्ष

की डाल, डाली (आचा २, १, ७, ६; उव; श्रौष; प्रासू १०२) । ३ वेद का एक देश (सुत्त ४, ६) । °भंग पुं [°भङ्ग] शाखा का टुकड़ा, पल्लव (आचा २, १, ७, ६) । °भय, °मिअ, °मिग पुं [°मृग] वानर, वन्दर (पात्र; ती २; सुपा २६२; ६१८) । °र, ल वि [°वन्] १ शाखावाला, शाखा-युक्त (धम्म १२ टी; सुपा ४७४) । २ पुं. वृक्ष, पेड़ (सुपा ६३८) ।

साहाणुसाहि पुं [दे] शक देश का सम्राट्, वादशाह; 'पत्तो सगकूलं नाम कूलं, तव्ये जे सामंता ते साहियो भएणंति जो सामंता-हिवई सयलनरिदवद्वुडामणो सो साहाणुसाही भएणइ' (काल) ।

साहार सक [सं + धारय] अच्छी तरह धारण करना । साहारइ (भवि) ।

साहार पुं [सहकार] आम का गाछ, 'होसइ किल साहारो साहारे अंगणम्मि वडु ते' (वजा १३८; सुपा ६३८) ।

साहार पुं [दे. साधुकार] साहकार, महा-जन (धम्म १२ टी) ।

साहार पुं [सदाधार, सहकार] अच्छा आधार, संहारा, अवलम्बन, सहायता, मदद, उपकार; 'परचित्तरजणेण न वेसमेत्तेण साहारो' (उव; पुष्प २२५), 'भुजंते आहारं गुणोवधारसरीरसाहारं' (श्रौष ५८३; स ४२५; वजा १३०; सण) ।

साहार वि [साहकार] आम के गाछ से उत्पन्न, आन्न-वृक्ष-सम्बन्धी (कप्प) ।

साहार पुं [साधारण] १ वनस्पति-साधारण } विशेष, जहाँ एक शरीर में अनन्त जीव हों वह वनस्पति, कन्द आदि । २ कर्म-विशेष, जिसके उदय से साधारण-वनस्पति में जन्म होय वह कर्म (कम्म २, २८; परह १, १—पत्र ८; कम्म १, २७; जी ८; परण १—पत्र ४२) । ३ कारण (आन्न १) । ४ पुं. साधारण वनस्पति-काय का जीव (परण १—पत्र ४२) । ५ वि. सामान्य । ६ समान, तुल्य (परह १—पत्र ४२) । ७ पुं. उपकार, सहायता, मदद; 'साहारणइ जे केइ गिलाणम्मि उवट्टिए । पभु ए कुएई किचं' (सम ५१) । °सरीरत्ताम न [°शरीर-

नामन्] देखो ऊपर का दूसरा अर्थ (सम ६७) ।

साहारण न [संधारण] ठीक तरह से धारण करना, टिकाना; 'अभिक्रमे पडिक्कमे संकुचए पसारए कायसाहारणहुए' (आचा १, ८, ८, १५) ।

साहारण न [स्वाधारण] सहारा करना, उपकार करना (सम ५१) ।

साहारण न [संधरण] संकोचन, समेटन (विसे ३०५२) ।

साहारिअ वि [संधारित] ठीक तरह धारण किया हुआ (भवि) ।

साहाविअ वि [स्वाभाविक] स्वभाव-सिद्ध, नैसर्गिक, कुदरती (गा २२५; गउड; कप्प; सुपा ४६३) ।

साहि पुं [शाखिन्] वृक्ष, पेड़ (पात्र; सण; उप पृ १५३) ।

साहि पुं [दे] १ एक देश का सामन्त राजा, 'पत्तो सगकूलं नाम कूलं । तव्य जे सामंता ते साहियो भएणति' (भग) । २ देखो साही (दे ८, ६; से १२, ६२) ।

साहि (अप) देखो सामि = स्वामिन् (पिग) ।

साहिअ वि [कथित, शासित, स्वाख्यात] कहा हुआ, उक्त, प्रतिपादित (सुपा २७६; सुर १, २०४; काल; पात्र; आचा) ।

साहिअ वि [साधित] सिद्ध किया हुआ, निष्पादित (अंत १३; सुर ६, ६६; भवि) ।

साहिअ वि [साधिक] सविशेष, सातिरेक (कप्प; सुपा २७६) ।

साहिअ वि [स्वाहित] स्वहित से विरुद्ध, निज का अहित (सुपा २७६) ।

साहिकरण वि [साधिकरण] १ अधिकरण-युक्त (निचू १०) । २ कलह करता, मंगड़ता (ठा ३—पत्र ३५२) ।

साहिकरणि वि [साधिकरणिन्] अधिकरण-युक्त, शरीर आदि अधिकरणवाला (भग १६, १—पत्र ६६८) ।

साहिकरण देखो साहिकरण (राज) ।

साहिकरणि देखो साहिकरणि (भग १६, १ टी—पत्र ६६६) ।

साहिज्ज देखो साहज्ज (अंत १३; सुपा २०५; गउड; कुप्र १३) ।

साहिज्जंत देखो साह = कयम् ।

साहिज्जमाण देखो साह = साध् ।

साहिण (अप) वि [कथिन्] कहनेवाला (सण) ।

साहित्त न [साहित्य] अलंकार-शास्त्र (सुपा १०३; ४५३) ।

साहिपंत } देखो साह = कयम् ।  
साहियमाण }  
साहिय्यंत }

साहिर वि [शासित्, कथयित्] शासन करनेवाला, कहनेवाला (गउड) ।

साहिल्य न [दे] मधु, शहद (दे ८, २७) ।

साही वी [दे] १ रय्या, मुहल्ला (दे ८, ६; से १२, ६२) । २ वतनी, मार्ग, रास्ता (पिंड ३३४) । ३ राजमार्ग (से १२, ६२) । ४ खिड़की, छोटा दरवाजा (आघ ६२२) ।

साहीण वि [स्वाधीन] स्वायत्त, स्वतन्त्र (पात्र; गा १६७; चाह ४३; सुर ३, ५६; प्रासू ६६) ।

साहीय देखो साहिअ = साधिक; 'तेत्तीस ज्यहिनामा साहीया हुंति अजयसम्माणं' (जीवस २२३) ।

साहु पुं [साधु] १ मुनि, यति (विसे ३६००; आचा; सुपा ३४२) । २ सज्जन, सत्पुरुष; 'साहवो सुअणा' (पात्र) । ३ वि. सुन्दर, शोभन, अच्छा (आचा; स्वप्न ६७; कुप्र ४५६) । ४ कम्म न [कर्मन्] तप-विशेष, निष्कृतिक तप (संघोष ५८) । ५ कार, क्लार पुं [कार] धन्यवाद, साधुवाद, प्रशंसा (वेणी ११४; ठा ४, ४ टी—पत्र २८३, पउम ५६; २३; से १३, १६; महा; भवि; विक्र १०६) । ६ नाह पुं [नाथ] श्रेष्ठ मुनि, आचार्य (सुपा ५४५) । ७ वाय पुं [वाद] प्रशंसा; 'जायं च साहुवाधं' (सिरि ३३४; स ३८५; सुपा ३७०) ।

साहुई वी [साधी] १ वी-साधु, श्रमणी, यतिनी । २ सती वी । ३ अच्छी (प्राक २८) ।

साहुणी वी [सध्नी] वी-साधु, यतिनी (काल; उप १०१४; सुपा ६७, ३३२; साधं २६; कुप्र २१४) ।

साहुलिआ } वी [दे] १ वस्त्र, कपड़ा (दे  
साहुली } ८, ५२; गा ६०६ अ; कप्प;  
पात्र; सुपा २२०; २४६) । २ शिरोवस्त्र-खंड  
(रंभा) । ३ शाला, डाली (दे ८, ५२; पड्;  
पात्र) । ४ भ्रू, भौं । ५ भुज, हाथ । ६  
पिकी, कोयल । ७ सदृश, समान । ८ सखी,  
सहचरी (दे ८, ५२) । ९ मयूर-पिच्छ (स  
५२३ टि) ।

साहेज्ज देखो साहज्ज (दे ७, ८६; सुपा १५२; गउड; महा; उपपं २८) ।

साहेज्ज वि [दे] अनुगृहीत (दे ८, २६) ।

साहेमाण देखो साह = साध् ।

सिअ देखो सिअ = शिव (संज्ञि १७) ।

सिअ वि [श्रित] आश्रित (से ६, ४८; उत्त १३, १५; सूत्र १, ७, ८) ।

सिअ देखो सिआ = स्यात् (भग; श्रावक १२८; धर्मसं २५८; १११२; गण ५; कुप्र १५६) ।

सिअ वि [शित] तीक्ष्ण धारवाला (सुपा ४७५) ।

सिअ वि [रिवत] अच्छी तरह प्राप्त (विसे ३४४५) ।

सिअ पुं [सित] १ शुक्ल वरुण । २ वि. श्वेत, सफेद, शुक्ल (श्रीप; उव; नाट—विक्र ७१; सुपा ११; भवि) । ३ वद्ध, बँधा हुआ (विसे ३०२६) । ४ न. नाम-कर्म का एक भेद, श्वेत-वरुण का कारण-भूत कर्म (कम्म १, ४०) । ५ किरण पुं [किरण] चन्द्र, चाँद (उप १३३ टी) । ६ गिरि पुं [गिरि] वैताल्य पर्वत की उत्तर श्रेणि में स्थित एक विद्याघर-नगर (इक) । ७ उभाण न [ध्यान] सर्व श्रेष्ठ ध्यान, शुक्ल ध्यान (सुपा १) । ८ पक्ख पुं [पक्ष] शुक्ल पक्ष (सुपा १७१) । ९ यर पुं [कर] चन्द्रमा (उप ७२८ टी) । १० वड पुं [पट] पाल, जहाज का वादवान; 'संकोइओ सियवडो पारद्धा देवयाए विन्नती' (उप ७२८ टी) । ११ वास पुं [वासस्] श्वेताम्बर जैन (ती १५) ।

सिअ (अप) देखो सिरी = श्री (भवि) । वंत

वि [मत्] लक्ष्मी-संपन्न, धनाढ्य (भवि) ।

सिअअ देखो सिअय (गा ८७७; ८६८; कप्प) ।

सिअंग पुं [दे] वरुण देवता (दे ८, ३१) ।  
सिअंवर पुं [दे]ताम्बर] जैनों का एक सम्प्र-  
दाय, देताम्बर जैन (सुपा ६५८) ।

सिअङ्गि पुं [दे] वृद्ध-विशेष (स २५६) ।  
देखो सीअङ्गि ।

सिआ देखो सिवा = शिवा (से १३, ६५) ।

सिआ अ [स्यात्] इन अर्थों का सूचक  
अव्यय—१ प्रशंसा, स्तुति । २ अस्तित्व,  
सत्ता । ३ संशय, संदेह । ४ प्रश्न । ५  
श्रवण, निश्चय । ६ विवाद । ७ विचारणा  
(हे २, १०७) । ८ अनेकान्त, अनिश्चय,  
कदाचित् (सूत्र १, १०, २३, वृह १; परण  
५—पत्र २३७) । ९ वाइ पुं [वादिन्]  
जिनदेव, अहं देव (कुमा) । १० वाय पुं  
[वाद्] अनेकान्त दर्शन, जैन दर्शन (हे २,  
१०७; चंड; पड्) ।

सिआ स्त्री [सिता] १ लेश्या-विशेष, शुक्ल-  
लेश्या (पत्र १५२) । २ दासा आदि का संग्रह  
(राज) ।

सिआल पुं [शृगाल, सृगाल] १ पशु-विशेष,  
सियार, गोदड़ (रागा १, १—पत्र ६५) ।  
२ दैत्य-विशेष । ३ वासुदेव । ४ निष्ठुर ।  
५ खल, दुर्जन (हे १, १२८; प्राप्र) ।

सिआली स्त्री [दे] उमर, देश का भीतरी या  
बाहरी उपद्रव (दे ८, ३२) ।

सिआली स्त्री [शृगाली] मादा सियार (नाट;  
पि ५०) ।

सिआलीस स्त्री [पट्चत्वारिंशत्] छेआ-  
लीस, चालीस और छः (विसे ३४६ टी) ।

सिआसिअ पुं [सितासित] १ बलभद्र,  
बलराम । २ वि. श्वेत और कृष्ण (प्राप्र) ।

सिइ पुं [शिति] १ हरा वरुण । २ वि. हरा  
वरुणाला । ३ पावरण पुं [प्रावरण] बल-  
राम, बलभद्र (कुमा) ।

सिइ स्त्री [दे. शिति] सीढ़ी, निःश्रेणि (पिड  
४७३; वव १०) ।

सिउं (अप) देखो समं (भवि) ।

सिउंठा स्त्री [दे. असिकुण्ठा] साधारण  
वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५) ।

सिएअर वि [सितेतर] कृष्ण, काला  
(पत्र) ।

सिंकला देखो संकला (प्रचु. ४०) ।

सिंखल न [दे] नूपुर (दे ८, १०; कुप्र ६८) ।

सिंखला देखो संकला (से १, १४; प्राप्र;  
नाट—गृच्छ ८६) ।

सिंग न [शृङ्ग] १ लगातार छत्तीस दिनों  
के उपवास (संबोध ५८) । २—देखो संग =  
शृङ्ग (उवा; पाप्र; राय ४१; कप्प; उप  
५६७ टी; सुपा ४३२; विक्र ८६; गउड;  
हे १, १३०) । ३ णाइय न [नादित]  
प्रधान काज (पंचमा ३) । ४ पाय न [पात्र]  
सिंग का बना हुआ पात्र (आचा २, ६, १,  
५) । ५ माल पुं [माल] वृद्ध-विशेष (राज) ।  
६ वंदण न [वन्दन] ललाट से नमन (वृह ३) ।  
७ वेर न [वेर] १ आद्रक, आदी । २ शुएकी;  
सोंठ (उत्त ३६, ६७; दस ५, १, ७०; भास  
८ टी; परण १—पत्र ३५) ।

सिंग वि [दे] कृया, दुर्बल (दे ८, २८) ।

सिंगय वि [दे] तरुण, जवान (दे ८, ३१) ।

सिंगरीडी देखो सिंगिरीडी (राज) ।

सिंगा स्त्री [दे] फली, फलिया (भास ८ टी) ।

सिंगार पुं [शृङ्गार] १ नाट्यशास्त्र-प्रसिद्ध  
रस-विशेष, सिंगारो राग रसो रदसंज्ञोपा-  
मिलाससंज्ञणयो (अणु) । २ वेप, भूपण  
आदि की सजावट, भूपण आदि की शोभा  
(श्रीप; विवा १, २) । ३ लवङ्ग, लौंग । ४  
चिन्दूर । ५ चूण, चूना । ६ काला अगद ।  
७ आद्रक, आदी । ८ हाथी का भूपण । ९  
अलंकार, भूपण (हे १, १२८; प्राप्र) । १०  
वि. अतिशय शोभावाला; 'तए एं समणस्स  
भगवओ महावीरस्स विद्युभोइस्स सरीरयं  
ओरालं सिंगारं कल्लाएणं सिवं वणं मंगल्लं  
अणल्लंकिप्रविभूसिअं.....चिट्ठइ' (भंग) ।

सिंगार सक [शृङ्गारय] सिंगार करना,  
सजावट करना । सिंगारइ (भवि) ।

सिंगारि वि [शृङ्गारिन्] सिंगार करनेवाला,  
शोभा करनेवाला (सिरि ८४४) ।

सिंगारिअ वि [शृङ्गारित] सिंगारा हुआ,  
सजाया हुआ (सिरि १५८) ।

सिंगारिअ वि [शृङ्गारिक] शृङ्गार-युक्त  
(उवा) ।

सिंगि वि [शृङ्गिन्] १ सिंगवाला (सुख ८,  
१३; दे ७, १६) । २ पुं. मेप, भेड़ । ३  
पर्वत । ४ भारतवर्ष का एक सीमा-पर्वत ।  
५ मुनि-विशेष । ६ वृद्ध (अणु १४२) ।

सिंगिणी स्त्री [दे] गौ, गैया (दे ७, ३१) ।

सिंगिया स्त्री [शृङ्गिका] पानी छिड़कने का  
पात्र-विशेष, पिचकारी (सुपा ३२८) ।

सिंगिरीडी स्त्री [शृङ्गिरीटी] चतुरिन्द्रिय  
जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १४८) ।

सिंगी स्त्री [शृङ्गी] देखो सिंगिया (सुपा  
३२८) ।

सिंगेरियन्म न [दे] बल्मीक (दे ८, ३३) ।

सिंय सक [शिङ्घ] सूचना । सिंयइ (कुप्र  
८१) । संक. सिंयिउं (धर्मवि ६४) । हेक.  
सिंयिउं (धर्मवि ६४) ।

सिंय देखो सिंह (हे १, २६; विवा १, ४—  
पत्र ५५; पड्) ।

सिंयल देखो सिंहल (सुर १३, २६; सुपा  
१५; पि २६७) ।

सिंयाडग } पुं [शृङ्गाटक] १ सिंयाड़ा,  
सिंयाडय } पानी-फल (परण १—पत्र ३६;  
आचा २, १, ८, ५) । २ त्रिकोण मार्ग  
(परह १, ३—पत्र ५४; श्रीप; रागा १,  
१ टी—पत्र ३; कप्प) । ३ पुं. राहु (सुज्ज  
२०) ।

सिंयाण पुं [शिङ्गाण] १ नासिका-मल,  
श्लेष्मा (ठा ५, ३—पत्र ३४२; सम १०;  
परह २, ५—पत्र १४८; श्रीप; कप्प; कस;  
दस ८, १८; पि २६७) । २ पुं. काला  
पुद्गल-विशेष (सुज्ज २०) ।

सिंयासण देखो सिंहासण (स ११७) ।

सिंयुअ पुं [दे] राहु (दे ८, ३१) ।

सिंच सक [सिच] सूचना, छिड़कना ।  
सिंचइ (हे ४, ६६; महा) । भूका. सिचिअ  
(कुमा) । भवि. सिचिस्सं (पि ५२६) । क.  
सिंचेयव्व (सुर ७, २३५) । कवक.  
सिंचंत, सिंचमाण (पि ५४२; उप २११  
टी; स ३४६) ।

सिंचण न [सेचन] छिड़काव (सूत्र १, ४,  
१, २१; मोह ३१) ।

सिंचाण पुं [दे] पक्षि-विशेष, श्वेत पक्षी,  
बाज; गुजराती में 'सिंचाणो' (सण) ।

सिंचाविअ वि [सेचित] छिड़कवाया हुआ (उप १०३१ टी; स २८०; ५४६)।

सिंचिअ वि [सिक्त] सोंचा हुआ, छिड़का हुआ (कुमा)।

सिंज अक [शिञ्] अस्फुट आवाज करना। वक्र. सिंजंत (सुपा ५०; सण)। कृ. सिंजि-अन्व (गा ३६२)।

सिंजण न [शिञ्जण] १ अस्पष्ट शब्द, भूपण की आवाज। २ वि. अस्पष्ट आवाज करने-वाला (सुपा ४)।

सिंजा ली [शिञ्जा] भूपण का शब्द (कप्पु; प्राप)।

सिंजिणी ली [शिञ्जिणी] धनुण, धनुष की डोरी (गा ५४)।

सिंजिय न [शिञ्जित] अव्यक्त आवाज (उप १०३१ टी; कप्पु)।

सिंजिर वि [शिञ्जित्] अस्फुट आवाज करने-वाला, 'सहालं सिजिरं कणिरं' (पात्र)।

सिंभ पुंन [सिंभन्] कुष्ठ रोग-विशेष (भग ७, ६—पत्र ३०७)।

सिंड वि [दे] मोटित, मोड़ा हुआ (दे ८, २६)।

सिंड पुं [दे] मयूर, मोर (दे ८, २०)।

सिंडा ली [दे] नासिका-नाद, नाक की आवाज (दे ८, २६)।

सिंदाण न [दे] विमान (उप १४२ टी)।

सिंदी ली [दे] खजूरी, खजूर का गाछ (दे ८, २६; पात्र; आवम)।

सिंदीर न [दे] नूपुर (दे ८, १०)।

सिंदु ली [दे] रज्जु, रस्ती (दे ८, २८)।

सिंदुरय न [दे] १ रज्जु, रस्ती। २ राज्य (दे ८, ५४)।

सिंदुवण पुं [दे] अग्नि; आग (दे ८, ३२)।

सिंदुवार पुं [सिन्दुवार] वृक्ष-विशेष, निगुंरडी, सन्हालु का गाछ (गडड; कुमा; उप १०१६; कुप्र ११७)।

सिंदूर न [दे] राज्य (दे ८, ३०)।

सिंदूर न [सिन्दूर] १ सिंदूर, रक्त-वर्ण, चूर्ण-विशेष (पउम २, ३८; गडड; महा)। २ पुं. वृक्ष-विशेष (हे १, ८५; संज्ञि ३)।

सिंदूरिअ वि [सिन्दूरित] सिन्दूर-युक्त किया हुआ (गा ३००)।

सिंदोल न [दे] खजूर, फल-विशेष (पात्र)।

सिंदोला ली [दे] खजूरी, खजूर का पेड़ (दे ८, २६)।

सिंधव न [सैन्धव] १ सिंध देश का लवण, सेंधा नोन (गा ६७६; कुमा)। २ पुं. घोड़ा (हे १, १४६)।

सिंधविया ली [सैन्धविका] लिपि-विशेष (विसे ४६४ टी)।

सिंधु ली [सिन्धु] १ नदी-विशेष, सिन्धु नदी (धर्मवि ८३; जं ४—पत्र २६०; सम २७)। २ नदी; 'सरिआ तरंगिणी निरणया नई आवगा सिंधु' (पात्र)। ३ सिन्धु नदी की अधिष्ठायिका देवी (जं ४)। ४ पुं. समुद्र, सागर (पात्र; कुप्र २२; सुपा १; २६४)।

५ देश-विशेष; सिन्धु देश (मुद्रा २४२; भवि; कुमा)। ६ द्वीप-विशेष। ७ पंच-विशेष (जं ४—पत्र २६०)। °णद् न [°नद्] नगर-विशेष (पउम ८, १६८)। °णाद् पुं [°नाथ] समुद्र (समु १५१) °देवी ली [°देवी] सिन्धु नदी की अधिष्ठायिका देवी (उप ७२८ टी)। °देवीकूड पुं [°देवीकूट] सुदूर हिमवत पर्वत का एक शिखर (जं ४—पत्र २६५) °पवाय पुंन [°प्रपात] कुण्ड-विशेष, जहाँ पर्वत से सिन्धु नदी गिरती है (ठा २, ३—पत्र ७२)। °राय पुं [°राज] सिन्धु देश का राजा (मुद्रा २४२)। °वइ पुं [°पति] १ समुद्र, सागर (स २०२)। २ सिन्धु देश का राजा (कुमा)। °सोवीर पुं [°सौवीर] सिन्धु नदी के समीप का देश-विशेष (भग १३, ६; महा)।

५ देश-विशेष; सिन्धु देश (मुद्रा २४२; भवि; कुमा)। ६ द्वीप-विशेष। ७ पंच-विशेष (जं ४—पत्र २६०)। °णद् न [°नद्] नगर-विशेष (पउम ८, १६८)। °णाद् पुं [°नाथ] समुद्र (समु १५१) °देवी ली [°देवी] सिन्धु नदी की अधिष्ठायिका देवी (उप ७२८ टी)। °देवीकूड पुं [°देवीकूट] सुदूर हिमवत पर्वत का एक शिखर (जं ४—पत्र २६५) °पवाय पुंन [°प्रपात] कुण्ड-विशेष, जहाँ पर्वत से सिन्धु नदी गिरती है (ठा २, ३—पत्र ७२)। °राय पुं [°राज] सिन्धु देश का राजा (मुद्रा २४२)। °वइ पुं [°पति] १ समुद्र, सागर (स २०२)। २ सिन्धु देश का राजा (कुमा)। °सोवीर पुं [°सौवीर] सिन्धु नदी के समीप का देश-विशेष (भग १३, ६; महा)।

सिंधुर पुं [सिन्धुर] हस्ती, हाथी (सुपा ८३; सम्मत १८७; कुमा)।

सिंप देखो सिंच। सिंपइ (हे ४, ६६)। कर्म. सिंपइ (हे ४, २५५) कवक. सिंपपंत (कुमा ७, ६०)।

सिंपिअ देखो सिंचिअ (कुमा)।

सिंपुअ वि [दे] पागल, भूत-गृहीत, भूताविष्ट (दे ८, ३०)।

सिंवल पुं [शाल्मल] सेमल का गाछ (रंभा २०)।

सिंवलि देखो संवलि = शाल्मलि (हे १, १४६; ८, २३; पात्र; सुर १४, ४३; पि १०६; संया ८५; उत १६, ५२)।

सिंवलि ली [शिंम्वलि, शिंम्व] कलाय आदि की फली, छीमी, फलियाँ (भग १५—पत्र ६८०; आचा २, १, १०, ३; दस ५, १, ७३)। °थालग पुंन [°स्थालक] १ फली की थाली। २ फली का पाक (आचा २, १, १०, ३)। देखो संवलि।

सिंवलिका ली [सिंम्वलिका] टोकरी (जिन-दत्ताख्यान)।

सिंवा ली [शिंम्व] फली, छीमी; 'कोसी समी य सिंवा' (पात्र)।

सिंवाडी ली [दे] नाक की आवाज (दे ८, २६)।

सिंवीर न [दे] पलाल, घास (दे ८, २८)।

सिंभ पुं [श्लेष्मन्] श्लेष्मा, कफ (हे २, ७४; तंदु १४; महा)।

सिंभलि देखो सिंवलि = शाल्मलि (सुपा ८४)।

सिंभि वि [श्लेष्मिन्] श्लेष्म-युक्त, श्लेष्म-रोगी (सुपा ५७६)।

सिंभिय वि [श्लैष्मिक] श्लेष्म-सम्बन्धी (तंदु १६; रागा १, १—पत्र ५०; श्रौप; पि २६७)।

सिंह पुं [सिंह] १ धापद पशु-विशेष, मृग-राज, केसरी (प्रासू १५४; १६६)। २ एक राज-कुमार (उप ६८६ टी)। ३ एक राजा (रयण २६)। ४ भगवान् महावीर का एक शिष्य, मुनि-विशेष (राज)। ५ व्रत-विशेष, त्रिविवाहार की संलेखना—परित्याग (संवेव ५८)। °अलाअण (अप) न [°विलोकन] १ सिंह की तरह पीछे देखना। २ छन्द-विशेष (पिंग)। °उर न [°पुर] पंजाब देश का एक प्राचीन नगर (भवि)। °कण्णी ली [°कर्णा] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५)। °केसर पुं [°केसर] एक प्रकार का उत्तम मोदक—लड्डू (उप २११ टी)। °दत्त पुं [°दत्त] १ व्यक्ति-वाचक नाम। २ वि. सिंह से दिया हुआ (हे १, ६२)। °दुवार न [°द्वार] राज-द्वार (मोह १०३)।

सिंह पुं [सिंह] १ धापद पशु-विशेष, मृग-राज, केसरी (प्रासू १५४; १६६)। २ एक राज-कुमार (उप ६८६ टी)। ३ एक राजा (रयण २६)। ४ भगवान् महावीर का एक शिष्य, मुनि-विशेष (राज)। ५ व्रत-विशेष, त्रिविवाहार की संलेखना—परित्याग (संवेव ५८)। °अलाअण (अप) न [°विलोकन] १ सिंह की तरह पीछे देखना। २ छन्द-विशेष (पिंग)। °उर न [°पुर] पंजाब देश का एक प्राचीन नगर (भवि)। °कण्णी ली [°कर्णा] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५)। °केसर पुं [°केसर] एक प्रकार का उत्तम मोदक—लड्डू (उप २११ टी)। °दत्त पुं [°दत्त] १ व्यक्ति-वाचक नाम। २ वि. सिंह से दिया हुआ (हे १, ६२)। °दुवार न [°द्वार] राज-द्वार (मोह १०३)।

सिंह पुं [सिंह] १ धापद पशु-विशेष, मृग-राज, केसरी (प्रासू १५४; १६६)। २ एक राज-कुमार (उप ६८६ टी)। ३ एक राजा (रयण २६)। ४ भगवान् महावीर का एक शिष्य, मुनि-विशेष (राज)। ५ व्रत-विशेष, त्रिविवाहार की संलेखना—परित्याग (संवेव ५८)। °अलाअण (अप) न [°विलोकन] १ सिंह की तरह पीछे देखना। २ छन्द-विशेष (पिंग)। °उर न [°पुर] पंजाब देश का एक प्राचीन नगर (भवि)। °कण्णी ली [°कर्णा] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५)। °केसर पुं [°केसर] एक प्रकार का उत्तम मोदक—लड्डू (उप २११ टी)। °दत्त पुं [°दत्त] १ व्यक्ति-वाचक नाम। २ वि. सिंह से दिया हुआ (हे १, ६२)। °दुवार न [°द्वार] राज-द्वार (मोह १०३)।

सिंह पुं [सिंह] १ धापद पशु-विशेष, मृग-राज, केसरी (प्रासू १५४; १६६)। २ एक राज-कुमार (उप ६८६ टी)। ३ एक राजा (रयण २६)। ४ भगवान् महावीर का एक शिष्य, मुनि-विशेष (राज)। ५ व्रत-विशेष, त्रिविवाहार की संलेखना—परित्याग (संवेव ५८)। °अलाअण (अप) न [°विलोकन] १ सिंह की तरह पीछे देखना। २ छन्द-विशेष (पिंग)। °उर न [°पुर] पंजाब देश का एक प्राचीन नगर (भवि)। °कण्णी ली [°कर्णा] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५)। °केसर पुं [°केसर] एक प्रकार का उत्तम मोदक—लड्डू (उप २११ टी)। °दत्त पुं [°दत्त] १ व्यक्ति-वाचक नाम। २ वि. सिंह से दिया हुआ (हे १, ६२)। °दुवार न [°द्वार] राज-द्वार (मोह १०३)।

सिंह पुं [सिंह] १ धापद पशु-विशेष, मृग-राज, केसरी (प्रासू १५४; १६६)। २ एक राज-कुमार (उप ६८६ टी)। ३ एक राजा (रयण २६)। ४ भगवान् महावीर का एक शिष्य, मुनि-विशेष (राज)। ५ व्रत-विशेष, त्रिविवाहार की संलेखना—परित्याग (संवेव ५८)। °अलाअण (अप) न [°विलोकन] १ सिंह की तरह पीछे देखना। २ छन्द-विशेष (पिंग)। °उर न [°पुर] पंजाब देश का एक प्राचीन नगर (भवि)। °कण्णी ली [°कर्णा] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५)। °केसर पुं [°केसर] एक प्रकार का उत्तम मोदक—लड्डू (उप २११ टी)। °दत्त पुं [°दत्त] १ व्यक्ति-वाचक नाम। २ वि. सिंह से दिया हुआ (हे १, ६२)। °दुवार न [°द्वार] राज-द्वार (मोह १०३)।

सिंह पुं [सिंह] १ धापद पशु-विशेष, मृग-राज, केसरी (प्रासू १५४; १६६)। २ एक राज-कुमार (उप ६८६ टी)। ३ एक राजा (रयण २६)। ४ भगवान् महावीर का एक शिष्य, मुनि-विशेष (राज)। ५ व्रत-विशेष, त्रिविवाहार की संलेखना—परित्याग (संवेव ५८)। °अलाअण (अप) न [°विलोकन] १ सिंह की तरह पीछे देखना। २ छन्द-विशेष (पिंग)। °उर न [°पुर] पंजाब देश का एक प्राचीन नगर (भवि)। °कण्णी ली [°कर्णा] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५)। °केसर पुं [°केसर] एक प्रकार का उत्तम मोदक—लड्डू (उप २११ टी)। °दत्त पुं [°दत्त] १ व्यक्ति-वाचक नाम। २ वि. सिंह से दिया हुआ (हे १, ६२)। °दुवार न [°द्वार] राज-द्वार (मोह १०३)।

सिंह पुं [सिंह] १ धापद पशु-विशेष, मृग-राज, केसरी (प्रासू १५४; १६६)। २ एक राज-कुमार (उप ६८६ टी)। ३ एक राजा (रयण २६)। ४ भगवान् महावीर का एक शिष्य, मुनि-विशेष (राज)। ५ व्रत-विशेष, त्रिविवाहार की संलेखना—परित्याग (संवेव ५८)। °अलाअण (अप) न [°विलोकन] १ सिंह की तरह पीछे देखना। २ छन्द-विशेष (पिंग)। °उर न [°पुर] पंजाब देश का एक प्राचीन नगर (भवि)। °कण्णी ली [°कर्णा] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५)। °केसर पुं [°केसर] एक प्रकार का उत्तम मोदक—लड्डू (उप २११ टी)। °दत्त पुं [°दत्त] १ व्यक्ति-वाचक नाम। २ वि. सिंह से दिया हुआ (हे १, ६२)। °दुवार न [°द्वार] राज-द्वार (मोह १०३)।

सिंह पुं [सिंह] १ धापद पशु-विशेष, मृग-राज, केसरी (प्रासू १५४; १६६)। २ एक राज-कुमार (उप ६८६ टी)। ३ एक राजा (रयण २६)। ४ भगवान् महावीर का एक शिष्य, मुनि-विशेष (राज)। ५ व्रत-विशेष, त्रिविवाहार की संलेखना—परित्याग (संवेव ५८)। °अलाअण (अप) न [°विलोकन] १ सिंह की तरह पीछे देखना। २ छन्द-विशेष (पिंग)। °उर न [°पुर] पंजाब देश का एक प्राचीन नगर (भवि)। °कण्णी ली [°कर्णा] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५)। °केसर पुं [°केसर] एक प्रकार का उत्तम मोदक—लड्डू (उप २११ टी)। °दत्त पुं [°दत्त] १ व्यक्ति-वाचक नाम। २ वि. सिंह से दिया हुआ (हे १, ६२)। °दुवार न [°द्वार] राज-द्वार (मोह १०३)।

°वलोक पुं [°वलोक] १ सिंह की तरह पीछे की तरफ देवना । २ छन्द-विशेष (पिंग) । १सण न [°सन] यासन-विशेष, राजासन, राज-गद्दी (महा) । देखो सीह ।

सिहल पुं [सिहल] १ देश-विशेष, सिहल-द्वीप, लंका-द्वीप (इक; सुर १३, २५; २७) । २ पुंत्री, सिहल-द्वीप का निवासी (श्रीप) ।

ब्री. °ली (श्रीप; याया १, १—पत्र ३७) ।

सिहलिआ ब्री [दे] शिखा, चोटी (पात्र) ।

सिहिणी ब्री [सिहिनी] छन्द-विशेष (पिंग) ।

सिहीभूय न [सिहीभूत] व्रत-विशेष, चतुर्विध आहार की संलेखना—परित्याग (संशोध ५८) ।

सिकता } ब्री [सिकता] बालू, रेत (अणु  
सिकया } २७० टो; पउम ११२, १७; विसे  
१७३६) ।

सिक पुं [सिक] हाँठ का अन्त भाग (दे १, २८) ।

सिकग पुंन [सिकग] सिकहर, सीका, छींका, रस्ती की बनी डोलनुमा एक चीज जो छत में लटकायी जाती है और उसमें चीजें रख दी जाती हैं जिससे उसमें चीटियाँ न चढ़ें और उसे बिल्ली न खाए (राय ६३; उवा; निवृ १; आवक ६३ टो) ।

सिकड पुंन [दे] खटिया, मचिया; 'कोव-नवणम्मि जरजिन्नसिककडे पडइ जरियव्व' (सुपा ६) ।

सिकय देखो सिकग (राय ६३; आवक ६३ टो; स ५८३) ।

सिकरा ब्री [शर्करा] खंड, टुकड़ा; 'सय-सिककरो' (स ६६३) ।

सिकरिअ न [सीत्कृत] अनुराग से उत्पन्न आवाज (गा ३६२) ।

सिकरिआ ब्री [दे. श्रीकरा] जहाज का आनरण-विशेष (सिरि ३८७) ।

सिकार पुं [सीत्कार] १ अनुराग की आवाज (गा ७२१; भवि; सण; नाट—मुच्छ १३६) । २ हाथी की चित्लाहट; 'कुंतविणनिन्नकरि-कलहमुक्कसिकारपउरम्मि' 'समरम्मि' (एभि १६) ।

सिकिआ ब्री [सिकिया, सिकियका] रस्ती की बनी हुई एक चीज जो चढ़ने के काम में आती है (सिरि ४२४) ।

सिकख सक [सिख] सीखना, पढ़ना, अभ्यास करना । सिकखइ (गा ४७७; ५२४), सिकखंतु, सिकखह (गा ३६२; गुण ४) । भवि. सिकखिस्तामि (स्वप्न ६७) । वक्र. सिकखंत, सिकखमाण (नाट—मुच्छ १४१; पि ३६७; सूय १, १४, १) । संकृ. सिकखिअ (नाट—रत्ना २१) । हेकृ. सिकखिअं (गा ८६२) ।

सिकख देखो सिकखाव । वक्र. सिकखयंत (पउम ८२, ६२) । कृ. सिकखणीअ (पउम ३२, ५०) ।

सिकखग वि [सिखक] शिक्षा-कर्ता, 'दुक्खाणं सिकखगं तं परिणदमिह मे दुक्कयं' (रंभा) ।

सिकखग पुं [शैक्षक] दूतन शिष्य (सुअनि १२८) ।

सिकखण न [सिखण] १ अभ्यास, पाठ (कुप्र २३०) । २ सीख, उपदेश (सुर ८, ५१) । ३ अव्यायन, पाठन (सिरि ७८१) ।

सिकखव देखो सिकखाव । सिकखवेणु (गा ७५०; ६४८) । कवकृ. सिकखविज्जमाण (सुपा ३१५) । कृ. सिकखवियव्व (सुपा २०७) ।

सिकखवअ वि [सिखक] शिक्षा देनेवाला, पढ़ानेवाला, शिक्षक (प्राकृ ६१) ।

सिकखविअ वि [सिखित] १ सिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ (गा ३५२) । २ न. शिक्षा देना, अभ्यास कराना, अव्यापन (सुपा २५) ।

सिकखा ब्री [सिखा] १ सजा, दरड (कुप्र ११०) । २ वेद का एक अङ्ग, वर्णों के उच्चारण सम्बन्धी ग्रंथ-विशेष, अक्षरों के स्वरूप को बतलानेवाला शास्त्र; 'सिक्खावा-गरणद्धवकण्डो' (वर्मवि ३८, श्रीप; कप्प; अंत) । ३ शास्त्र और आचार सम्बन्धी शिक्षण, अभ्यास, सीख, सिखाई, उपदेश (श्रीप; वृह १; महा; कुप्र १६७) । ४ वय न [°व्रत] व्रत-विशेष, जैन गृहस्थ के सामायिक आदि चार व्रत (श्रीप; महा; सुपा ५४०) । ५ वय न [°पद] शिक्षा-स्थान (श्रीप) ।

सिकखा (अप) ब्री [सिखा] छन्द-विशेष (पिंग) ।

सिकखाण न [सिखाण] आचार-सम्बन्धी उपदेश देनेवाला शास्त्र (कप्प) ।

सिकखाव सक [सिखव] सिखाना, पढ़ाना, अभ्यास कराना । सिकखावेइ (पि ५५६) । भवि. सिक्खावेहिहि (श्रीप) । संकृ. सिकखा-वेत्ता (श्रीप) । हेकृ. सिकखावित्तए; सिकखावेत्तए; सिकखावेउं (ठा २, १—पत्र ५६; कस; पंचा १०, ४८ टो) ।

सिकखावअ देखो सिकखवअ (गा ३५८; प्राकृ ६१) ।

सिकखावण न [सिखण] सिखाना, सीख, हितोपदेश (सुल २, १६; प्राकृ ६१; कप्प) ।

सिकखावणा ब्री [सिखणा] ऊपर देखो (सुअनि १२७; उप १५० टो) ।

सिकखाविअ वि [सिखित] सिखाया हुआ (भग; पउम ६७, २२; याया १, १—पत्र ६०; १, १८—पत्र २३६) ।

सिखिअ वि [सिखित] सिखा हुआ, जानकार, विद्वान् (याया १, १४—पत्र १८७; श्रीप) ।

सिखिर वि [सिखित] सीखने की श्रावतवाला, अभ्यासी (गा ६६१) ।

सिखा ब्री [सिखा] छन्द-विशेष (पिंग) ।

सिखि देखो सिहि-सिखिव (नाट—विक्र ३४) ।

सिगया देखो सिकया (राज) ।

सिगाल देखो सिआल (सण) ।

सिगाली देखो सिआली = शृगाली (चार ११) ।

सिगं वि [दे] १ आन्त, थका हुआ (दे ८, २८; श्रीप २३) । २ पुंन. परिश्रम, थकावट (वव ४) ।

सिग्गु पुं [सिग्गु] वृत्त-विशेष, सहिजना का पंड़ (दे ३, २०; पाष) ।

सिगय न [शीघ्र] १ जल्दी, तुरंत । २ वि. शीघ्रता-युक्त, त्वरा-युक्त (पात्र; स्वप्न ५४; चंड; कप्प; महा) सुर १, २१०; ४, ६६; सुपा ५८०) ।

सिचय पुं [सिचय] वन्न, कपड़ा (पात्र; गा २६१; कुप्र ४३३) ।

सिञ्चत } देखो सिच = सिच् ।  
सिञ्चमाण }

सिञ्चद्वा स्त्री [स्वेच्छा] स्वच्छन्द (सुपा ३१६) ।

सिञ्ज अक [स्विद्] पसीना होना । सिञ्जइ (पङ् २०३) । वक्र. सिञ्जंत (नाट—उत्तर ६१) ।

सिञ्ज<sup>०</sup> देखो सिञ्जा (सम्मत १७०) ।

सिञ्जभण पुं [शय्यभण] एक सुप्रसिद्ध प्राचीन जैन महर्षि (कल्प-पृ ७८; रांदि) ।

सिञ्जंस देखो सेज्जंस = श्रेयांस (कल्प; पडि; आचा २, १५, ३) ।

सिञ्जा स्त्री [शय्या] ? विद्योना (सम १५; उवा; सुपा ५७३) । २ उवाश्रय, वसति (श्रौच १६७) । °तरी, °यरी स्त्री [°तरी] उवाश्रय की मालकिन (श्रौच १६७; पि १०१) । °वाली स्त्री [°पाली] विद्योना का काम करनेवाली दासी (सुपा ६४१) । देखो सेजा ।

सिञ्जिअ (अप) वि [सृष्ट] उत्पन्न किया हुआ, बनाया हुआ (पिग) ।

सिञ्जिर वि [स्वेत्त] जिसको पसीना हुआ करता हो वह, पसीनावाला (गा ४०७; ४०८; ७७४; कुमा) । स्त्री. °री (हे ४, २२४) ।

सिञ्जूर न [दे] राज्य (दे ८, ३०) ।

सिञ्जक अक [सिध्] १ निष्पन्न होना, बनना । २ पकना । ३ मुक्त होना । ४ मंगल होना । ५ सक. गति करना, जाना । ६ शासन करना । सिञ्जइ (हे ४, २१७; भग; महा) सिञ्जंति (कल्प) । भुका, सिञ्जंमु (भग; पि ५१६) । भवि. सिञ्जिहिइ, सिञ्जिहंसति, सिञ्जिहिति, सिञ्जिही (उवा; भग; पि ५२७; महा) । वक्र. सिञ्जंत (पिड २५१) ।

सिञ्जक देखो सिंजक (राज) ।

सिञ्जगया } स्त्री [सेधना] १ सिद्धि, मुक्ति,  
सिञ्जगया } मोक्ष, निवर्ण (सम १४७;  
उप १३१; ७६६; पव ८८; धर्मावि १५१;  
विसे ३०३७) । २ निष्पत्ति, सावना;

‘सब्बो परोवयारं करेइ

नियकजसिञ्जकणानिरओ ।

निरविकवो नियकज्जे

परोवयारी हवइ वन्नो ॥’

(रयण ४६) ।

सिद्ध वि [श्रेष्ठ] अति उत्तम (उप ८७६) ।

सिद्ध वि [सृष्ट] १ रचित, निर्मित (उप ७२८ टी; रंभा) । २ युक्त । ३ निश्चित । ४ भूषित । ५ बहुल, प्रचुर । ६ त्यक्त (हे १, १२८) ।

सिद्ध वि [शिष्ट] १ कथित, उक्त, उपदिष्ट (सुर १, १६५; २, १८४; जी ५०; वजा १३६) । २ सज्जन, भलामानस, प्रतिष्ठित (उप ७६८ टी; कुप्र ६४; सिरि ४५; सुपा ४७०) । °चार पुं [°ाचार] भलमनसो, सदाचार (वर्म १) ।

सिद्ध वि [दे] सो कर उठा हुआ (पङ्) ।

सिद्धि स्त्री [सृष्टि] १ विश्व-निर्माण, जगद-रचना (सुपा १:१; महा) । २ निर्माण, रचना । ३ स्वभाव । ४ जिसका निर्माण होता हो वह (हे १, १२८) । ५ सीवा रूप, अविपरीत क्रम; ‘चक्राई जंतजोगेणं सिद्धि-विसिद्धिकमेणं एगंतरियं भमंताइ’ (सिरि ८७८) ।

सिद्धि पुं [दे. श्रेष्ठिन्] नगर-सेठ, नगर का मुख्य साहूकार, महाजन (कल्प, सुपा ५८०) । °पय न [°पद्] नगर-सेठ की पदवी (सुपा ३४२) । देखो सेट्टि ।

सिद्धिणी स्त्री [श्रेष्ठिनी] श्रेष्ठि-पत्नी, सेठानी (सुपा १२) ।

सिद्धी स्त्री [दे] सीढ़ी, निःश्रेणि (अज्ज ७०) ।

सिद्धि वि [शिथिर, शिथिल] १ श्वय, ढीला । २ अरुढ़, जो मजबूत न हो वह । ३ मन्द (हे १, २१५; २५४; प्राप्र; कुमा; प्राप् १०२; गउड) ।

सिद्धि लक [शिथिल्य] शिथिल करना । सिद्धिइ, सिद्धिलंति, सिद्धिलेंति (उव; वजा १०; से ६ ६५) सिद्धिलेहि (वेणो २४३; पि ४६८) । वक्र. सिद्धिलें (से ५, ४२) ।

सिद्धिलाविअ वि [शिथिलित] शिथिल कराया हुआ (प्राक् ६१) ।

सिद्धिलिअ वि [शिथिलित] शिथिल किया हुआ (कुमा; गउड; भवि) ।

सिद्धिलोक्य वि [शिथिलीकृत] शिथिल किया हुआ (सुर २, १६; १७३) ।

सिद्धिलीभूय वि [शिथिलीभूत] शिथिल बना हुआ (पवम ५३, २४) ।

सिण देखो सण = शण (जी १०; सुपा १८६; गा ७६८) ।

सिणगार देखो सिंगार = शृङ्गार; ‘सिणगार-चारवेसो’ (संभव, ४७); ‘कारिअसुरसुंदरिसिणगार’ (सिरि १५८) ।

सिणा अक [स्ना] स्नान करना, नहाना । सिणाइ (सूत्र १, ७, २१; प्राक् २८) । संक्र. सिणाइत्ता (सूत्र २, ७, १७) । हेक्क. सिणाइत्ताए (श्रौप) ।

सिणाउ पुंस्त्री [स्नायु] नाडी-विशेष, वायु वहन करनेवाली नाड़ी (प्राक् २८) ।

सिणाण उ [स्नान] नहान, अवागहन (सम ३५; श्रौच ४६६; रयण १४) ।

सिणात देखो सिणाय = स्नात (ठा ४, १—पत्र १६३; ५, ३—पत्र ३३६) ।

सिणाय देखो सिणा । सिणायंति (दस ६, ६३) । वक्र. सिणायंत (दस ६, ६२; पि १३३) ।

सिणाय } वि [स्नात, °क] १ प्रधान,  
सिणायग } श्रेष्ठ (सूत्र २, २, ५६) । २  
सिणायय } मुनि-विशेष, केवलज्ञान प्राप्त मुनि, केवली भगवान् (भग २५, ६; रांदि १३८ टी; ठा ३, २—पत्र १२६; वर्मसं १३५८; उत २५, ३४) । ३ बुद्ध शिष्य, बोधि सत्त्व (सूत्र २, ६, २६) ।

सिणाव सक [स्नपय्] स्नान कराना । सिणावेदि (शौ) (नाट—चैत ४४) ।

सिणावंति, सिणावेंति (आचा २, २, ३, १०; पि १३३) ।

सिणि स्त्री [सृणि] शंकुश (सुपा ५३७; सिरि १०५८) ।

सिणिज्जक अक [स्निह्] प्रीति करना । सिणिज्जइ (प्राक् २४) । कर्म. सिप्पइ (हे ४, २५५) । कवक. सिप्पंत (कुमा ७, ६०) ।

सिणिद्ध वि [स्निग्ध] १ प्रीति-युक्त, स्नेह-युक्त (स्वप्न ५३; प्राप् ६२) । २ श्राद्ध, रस-युक्त (कुमा) । ३ मच्छण, कोमल । ४ चिकना । ५ न. भात का मोड़ (हे २, १०६; प्राप्र) ।



सिणेह देखो सणेह (भगः एया १, १३—  
पत्र १८१; लज्ज १५; कुमा; प्रासू ६) ।

सिणेहालु वि [स्नेहवन्] स्नेहवाला (स  
७६३) ।

सिण्ण वि [स्विन्न] स्वेद-युक्त (गा २४४) ।

सिण्ण देखो सिन्न = शीर्ण (नाट—मृच्छ  
२१०) ।

सिण्ह पुंन [शिश्न] पुंन्विह, पुन्य-लिंग  
(प्राप्रः दे ४, ५) ।

सिण्हा ली [दे] १ हिम, आकाश से गिरता  
जल-कण (दे ८, ५३) । २ अवरयाय, कुहरा,  
कुहासा (दे ८, ५३; पाप्र) ।

सिण्हालय पुंन [दे] फल-विशेष (अनु ६) ।

सिति देखो सिइ = (दे) (वव १०) ।

सित्त वि [सिक्त] सींचा हुआ (सुर ४, १४५;  
कुमा) ।

सित्तुंज देखो सेत्तुंज (सूक्त ५२) ।

सित्थ न [दे] गुण, वनुप की डोरी; 'सित्थं  
व असोत्तगयं मह मणं देव इमेइ' (कुप्र ५४;  
पाप्र) ।

सित्थ } न [सिक्थ] १ धान्य-कण (पण्ह  
सित्थय } १, ३—पत्र ५५; कण्यः श्रोपः  
अणु १४२) । २ मोम (दे १, ५२; पाप्रः  
उप ७२८ टी) । ३ श्रोपवि-विशेष, नीली,  
नील (हे २, ७७) । ४ पुंन, कवल, ग्रासः  
'मासे मासे उ जा अज्जा एणसित्थेण पारए'  
(गच्छ ३, २८; प्राप्र) ।

सित्था ली [दे] १ लाला । २ जीवां, वनुप  
की डोरी (दे ८, ५३) ।

सित्थि पुं [दे] मत्स्य, मछली (दे ८, २८) ।

सिद्ध वि [दे] परिपाटित, विदारित, चीरा  
हुआ (दे ८, ३०) ।

सिद्ध वि [सिद्ध] १ मुक्त, मोक्ष-प्राप्त, निर्वाण-  
प्राप्त (ठा १—पत्र २५; भग; कण्य; विसे  
३०२७; २६; सम्म ८६; जी २५; सुपा  
२४४; ३४२) । २ निष्पन्न, बना हुआ  
(प्रासू १५) । ३ पका हुआ (सुपा ६३३) ।  
४ शाश्वत, नित्य (चेइय ६७६) । ५ प्रतिष्ठित,  
लज्ज-प्रतिष्ठ (चेइय ६७६; सम्म १) । ६  
निश्चित, निर्णीत (सम्म १) । ७ विख्यात,  
प्रसिद्ध (चेइय ६८०) । ८ शब्द-विशेष,

सान्य-विलक्षण शब्द (नास ८२) । ९ सावित  
किया हुआ । १० प्रतीत, ज्ञात (पंचा ११,  
२६) । ११ पुं. विद्या, मंत्र, कर्म, शिल्प  
आदि में जिसने पूर्णता प्राप्त की हो वह  
पुरुष (ठा १—पत्र २५; विसे ३०२८; वजा  
६८) । १२ समय-परिमाण-विशेष, स्तोत्र-  
विशेष (कण्य) । १३ न, लगातार पनरह  
दिनों के उपवास (संबोध ५८) । १४ पुंन.  
महाहिमवंत आदि अनेक पदों के शिक्षरों  
का नाम (ठा ८—पत्र ४३६; ९—पत्र  
४५४; इक) । १५ अक्षर पुंन [अक्षर] 'नमो  
अरिहंताय' यह वाक्य (नावि) । १६ गंडिया  
ली [गण्डिका] सिद्ध-संबन्धी एक ग्रन्थ-  
प्रकरण (भग) । १७ चक्र न [चक्र] अहं  
आदि नव पद (सिरि ३४) । १८ न [अत्र]  
पकाया हुआ अन्न (सुपा ६३३) । १९ पुत्त पुं  
[पुत्र] जैन साधु और गृहस्थ के बीच की  
अवस्थावाला पुरुष (संबोध ३१; निरु १) ।  
२० मणोरम पुं [मनोरम] पक्ष का दूसरा  
दिन (सुख १०, १४) । २१ राय पुं [राज]  
विक्रम की बारहवीं शताब्दी का गुजरात का  
एक सुप्रसिद्ध राजा, जो सिद्धराज जयसिंह के  
नाम से प्रसिद्ध था (कुप्र २२; वाप्र १५) ।  
२२ बाल पुं [पाल] बारहवीं शताब्दी का  
गुजरात का एक प्रसिद्ध जैन कवि (कुप्र  
१७६) । २३ सेण पुं [सेन] एक सुप्रसिद्ध  
प्राचीन जैन महाकवि और ताकिक आचार्य  
(सम्मत् १४१) । २४ सेणिया ली [श्रेणिया]  
बारहवीं जैन श्रंग-ग्रन्थ का एक ग्रंथ (एदि) ।  
२५ सेल पुं [शैल] शत्रुघ्न्य पर्वत, सीराष्ट्र  
देश में पालोताना के पास का जैन महा-  
तीर्थ (सुख १, ३; सिरि ५५२) । २६ हेम  
न [हेम] आचार्य हेमचन्द्र विरचित प्रसिद्ध  
व्याकरण-ग्रन्थ (मोह २) ।

सिद्धंत पुं [सिद्धान्त] १ आगम, शास्त्र (जजः  
वृह १; एदि) । २ निश्चय (स १०३) ।

सिद्धत्थ पुं [दे] छद्, देव-विशेष (दे ८,  
३१) ।

सिद्धत्थ वि [सिद्धार्थ] १ कृतार्थ, कृतकृत्य  
(पउम ७२, ११) । २ पुं. भगवान् महावीर  
के पिता का नाम (सम १५१, कण्य; पउम  
२, २१; सुर १, १०) । ३ ऐश्वर्य वष के

भावी दूसरे जिन-श्रेय (सम १५४) । ४ एक  
जैन मुनि जो नववें वलदेव के दोआ-युग थे  
(पउम २०, २०६) । ५ वृत्त-विशेष (सुपा  
७७; पिउ ५६१) । ६ सभ्य, सभ्यता (अणु  
२३; कुप्र ४६०; पव १५४; हे ४, ४२३;  
उप ४६६) । ७ भगवान् महावीर के कान  
से कील निकालनेवाला एक बलिह (चेइय  
६६) । ८ एक देव-विमान (सम ३८; आचा  
२, १५, २; देवेन्द्र १४५) । ९ वन-विशेष  
(आक) । १० पाटलिपुत्र नगर का एक राजा  
(विपा १, ७—पत्र ७२) । ११ एक गांव  
का नाम (भग १५—पत्र ६६४) । १२ पुर न  
[पुर] श्रंग देश का एक प्राचीन नगर (सुर  
२, ६८) । १३ वग न [वन] वन-विशेष  
(भग) ।

सिद्धत्था ली [सिद्धार्थ] १ भगवान् अग्नि-  
नन्दन-स्वामी की माता का नाम (सम  
१५१) । २ एक विद्या (पउम ७, १४५) ।  
३ भगवान् संबन्धनायकों की दोआ-शिकिका  
(विचार १२६) ।

सिद्धत्थिया ली [सिद्धार्थिका] १ मिष्ट-वस्तु-  
विशेष (पण १७—पत्र ५३३) । २ आन-  
रण-विशेष, सोने की कंबो (श्रोप) ।

सिद्धत्थ पुं [सिद्धक] १ वृत्त-विशेष, सिद्धवाच  
वृत्त, सन्हालु का गद्य । २ शाल वृत्त (हे  
१, १८७) ।

सिद्धा ली [सिद्धा] १ भगवान् महावीर की  
शासन-देवी, सिद्धार्थिका (सति १०) । २  
पुर्विकी-विशेष, मुक्ति-स्थान, सिद्ध-शिला (सम  
२२) ।

सिद्धाइया ली [सिद्धार्थिका] भगवान् महा-  
वीर की शासन-देवी (गण १२) ।

सिद्धाययण पुंन [सिद्धायतन] १ शारवत  
मन्दिर—देव-गृह । २ जिन-मन्दिर (ठा ४-  
२—पत्र २२६; इक; सुर ३, १२२) । ३ अमुक्त  
पदों के शिक्षरों का नाम (इक; जं ४) ।

सिद्धालय लीन [सिद्धालय] मुक्त-स्थान,  
सिद्ध-शिला (श्रोप; पउम ११, १२१; इक) ।  
ली. वा (ठा ८—पत्र ४४०; सम २२) ।

सिद्धि ली [सिद्धि] १ सिद्ध-शिला, पुर्विकी-  
विशेष, जहाँ मुक्त जीव रहते हैं (भग; उप; ठा

८—पत्र ४४०; औप; इक)। २ मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष (ठा १—पत्र २५; पडि; औप; कुमा)। ३ कर्म-अय (सूत्र २, ५, २५; २६)। ४ अणिमा आदि योग की शक्ति (ठा १)। ५ कृतार्थता, कृतकृत्यता (ठा १—पत्र २५; कप्प; औप)। ६ निष्पत्ति; 'न कयाइ दुब्बि-णोओ सक्कसिद्धि समाणेइ' (उव)। ७ सम्बन्ध (दसनि १, १२२)। ८ छन्द विशेष (पिग)। ९ गइ वी [गति] मुक्ति-स्नान में गमन (कप्प; औप; पडि)। १० गंडिया वी [गण्डिका] ग्रन्थ-प्रकरण-विशेष (भग ११, ६—पत्र ५२१)। ११ पुर न [पुर] नगर-विशेष (कुप्र २२)।

सिन्न वि [शीर्ण] जोणं, गला हुमा (सुपा ११; विवे ७० टी)।

सिन्न देवो सिण्ण = त्विन्न (सुपा ११)।

सिन्न वीन [सैन्य] १ मिला हुआ हाथी-बोड़ा आदि। २ सेना का समुदाय (हे १, १५०; कुमा)। वी. 'ता अन्नदियो नये पवेदियं सत्तुसिन्नाए' (सुर १२, १०४)।

सिप्प देवो सिप। सिप्पइ (पड्)।

सिप्प न [दे] पलाल, पुआल, वृण-विशेष (दे ८, २८)।

सिप्प न [शिल्प] काष्ठ-कार्य, कारीगरी, चित्रादि-विज्ञान, कला, हुनर, क्रिया-कुशलता (पएह १; ३—पत्र ५५; उवा; प्रासू ८०)। २ तेजस्काय, अग्नि-संघात। ३ अग्नि का जीव। ४ पुं. तेजस्काय का अविष्ठाता देव (ठा ५, १—पत्र २६२)। ५ सिद्ध पुं [सिद्ध] कला में अतिकुशल (आवम)। ६ जीव वि [जीव] कारीगर, कला—हुनर से जीविका-निर्वाह करनेवाला (ठा ५, १—पत्र ३०३)।

सिप्पा वी [सिप्रा] नदी-विशेष, जो उजैन के पास से गुजरती है (स २६३; उप पृ २१८; कुप्र ५०)।

सिप्पि वि [शिल्पिन्] कारीगर, हुनरी, चित्र आदि कला में कुशल (औप; मा ४)।

सिप्पि वी [शुक्ति] सोप, घोंघा (हे २, १३८; उवा; पड्; कुमा; प्रासू ३६; पि ३८५)।

सिप्पिअ वि [शिल्पिक] शिल्पी, कारीगर (महा)।

सिप्पिअ न [दे] वृण-विशेष, पलाल, पुआल (पएण १—पत्र ३३; गा ३३०)।

सिप्पी वी [दे] सूची, सूई (पड्)।

सिप्पीअ देवो सिप्पिअ (गा ३३० अ; पि २११)।

सिविअ देवो सिविर (पउम १०, २७)।

सिव्भ देवो सिभ (चंड)।

सिभा वी [शिफा] वृक्ष का जटाकार मूल (हे १, २३६)।

सिम स [सिम] सवें, सब (प्राभा)।

सिम° देवो सीमा; 'जाव सिमसंनिहाणं पत्तो नगरस्स वाहिहज्जाणे' (सुपा १६२)।

सिमसिम } अक [सिमसिमाय] 'सिम सिमसिमाय' सिम' आवाज करना। सिम-सिमायति (वजा ८२)। वक्र. सिमसिमंत (गा ५६१ अ)।

सिमिण देवो सुमिण (हे १, ४६; २५६)।

सिमिर (अप) देवो सिविर (भवि)।

सिमिसिम } देवो सिमसिम। वक्र. सिमिसिमाअ } सिमिसिमंत, सिमिसि-माअंत (गा ५६०; पि ५५८)।

सिमिसिमिय वि [सिमिसिमिह] 'सिम सिम' आवाज करनेवाला (पउम १०५, ५५)।

सिर सक्क [सुज्] १ बनाना, निर्माण करना। २ छोड़ना, त्याग करना। सिरइ (पि २३५), सिरामि (विसे ३५७६)।

सिर न [शिरस्] १ मस्तक, माथा, सिर (पाय; कुमा; गउड)। २ प्रधान, श्रेष्ठ। ३ अग्र भाग (हे १, ३२)। ४ क न [क] शिरस्त्राण, मस्तक का वस्त्र (दे ५, ३१; कुमा; कुप्र २६२)। ५ ताण, ६ ताण न [त्राण] वही पूर्वोक्त अर्थ (कुमा; स ३८५)। ७ वरिथ वी [वस्ति] चिकित्सा-विशेष, सिर में चर्म-कोश देकर उसमें संस्कृत तैल आदि पूरने का उपचार (विपा १, १—पत्र १४), 'सिरवेदेहि (?सिरवत्वोहि)य' (आया १, १३—पत्र १८१)। ८ मणि देवो सिर्रो-मणि (सुपा ५३२)। ९ य पुं [ज] केश, बाल (भग; कप्प; औप; स ५७८)। १० हर न

[गृह] मकान के ऊपर की छत, चन्द्रशाला (दे ३, ४६)। देवो सिर्रो°।

सिर° देवो सिरा (जी १०)।

°सिरय } देवो सिर = शिरस् (कप्प; पएह °सिरस } १, ४—पत्र ६८; औप)।

सिरसावत्त वि [शिरसावर्त, शिरस्यावर्त] मस्तक पर प्रदक्षिणा करनेवाला, शिर पर परिभ्रमण करता (आया १, १—पत्र १३; कप्प; औप)।

सिरा वी [शिरा, सिरा] १ रग, नस, नाड़ी (आया १, १३—पत्र १८१; जी १०; जीव १)। २ वारा, प्रवाह (कुमा; उप पृ ३६६)।

सिरि° देवो सिर्रो (कुमा; जी ५०; प्रासू ५२; ८०; कम्म १, १; पि ६८)। १ उक्त पुं [पुत्र] भारतवर्ष में होनेवाला एक चक्रवर्ती राजा (सम १५४)। २ उर न [पुर] नगर-विशेष (उप ५५०)। ३ कंठ पुं [कण्ठ] १ शिव, महादेव (कुमा)। २ वानरद्वीप का एक राजा (पउम ६, ३)। ३ कंत पुंन [कान्त] एक देव-विमान (सम २७)। ४ कंता वी [कान्ता] १ एक राज-पत्नी (पउम ८, १८७)। २ एक कुलकर-पत्नी (सम १५०)। ३ एक राज-कन्या (महा)। ४ एक पुष्करिणी (इक)। ५ कंद-लग पुं [कन्दलग] पशु-विशेष, एक-खुरा जानवर की एक जाति (पएण १—पत्र ४६)। ६ करण न [करण] १ न्याया-यालय, न्याय-मन्दिर। २ कैसला (सुपा ३६१)। ३ करणीय वि [करणिय] श्रो करण-संबन्धी (सुपा ३६१)। ४ कूड पुंन [कूट] हिमवत पर्वत का एक शिखर (राज)। ५ खंड न [खण्ड] चन्दन (सुर २, ५६; कप्प)। ६ गरण देवो करण (सुपा ४२५)। ७ गीव पुं [ग्रीव] राक्षस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति (पउम ५, २६१)। ८ गुत्त पुं [गुत्त] एक जैन महर्षि (कप्प)। ९ घर न [गृह] भंडार, खजाना (आया १, १—पत्र ५३; सुप्रति ५५)। १० घरिअ वि [गृहिक] भंडारी, खजानाची (विसे १४२५)। ११ चंद पुं [चन्द्र] १ एक प्रसिद्ध जैनार्थ और ग्रन्थकार (पव ४६; सुपा ६५८)। २ ऐरवत क्षेत्र में होनेवाले एक

जिनदेव (सम १५४; पत्र ७)। ३ आठवें बलदेव का पूर्वमन्त्रीय नाम (पत्रम २०, १६१)। चंदा स्त्री [चन्द्रा] १ एक पुष्करिणी (इक)। २ एक राज-पत्नी (उप ६८६ टी)। इड पुं [आड्य] एक जैन मुनि (कप्प), णयर न [नगर] वैताड्य की दक्षिण-श्रेणी का एक विद्याधरनगर (इक)। देखो नयर। णिकेतण न [निकेतन] वैताड्य की उत्तर-श्रेणी में स्थित एक विद्याधर-नगर (इक)। णिलय न [निलय] वैताड्य पर्वत की दक्षिण-श्रेणी में स्थित एक नगर (इक)। देखो निलय। णिलया स्त्री [निलया] एक पुष्करिणी (इक)। णिहुवय पुं [कामक] विष्णु, श्रीकृष्ण (कुमा)। ताली स्त्री [ताली] वृक्ष-विशेष (कप्प)। दत्त पुं [दत्त] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न पाँचवें जिन-देव (पत्र ७)। दाम न [दामन] १ शोभावाली माला (जं ५)। २ आभरण-विशेष (आवम)। ३ पुं. एक राजा (विपा १, ६—पत्र ६४)। दामकंड, दामगंड पुं [दामकाण्ड] १ शोभावाली मालाओं का समूह (जं ५)। २ एक देव-विमान (सम ३६)। दामगंड पुं [दामगण्ड] १ शोभावाली मालाओं का दण्डाकार समूह (जं ५)। देवी स्त्री [देवी] १ देवी-विशेष (राज)। २ लक्ष्मी (धर्मवि १४७)। देवीनंदण पुं [देवी-नन्दन] कामदेव (धर्मवि १४७)। नंदण पुं [नन्दन] १ कामदेव। २ वि. श्री से समुद्र (सुपा २३४; धम्म १३ टी)। नयर न [नगर] दक्षिण देश का एक शहर (कुमा)। देखो णयर। निलय पुं [निलय] वासुदेव (पत्रम ३८, ३०)। देखो णिलय। पट्ट पुं [पट्ट] नगर-सेठई का सूचक एक राज-चिह्न (सुपा २८३)। पठ्वय पुं [पर्वत] पर्वत-विशेष (वज्जा ६८)। प्ह पुं [प्रभ] एक प्रसिद्ध जैन आचार्य और ग्रन्थकार (धर्मवि १५२)। पाल देखो वाल (सिरि ३४)। फल पुं [फल] विल्व-वृक्ष (कुमा)। देखो हल। भूइ पुं [भूति] भारतवर्ष में होनेवाले छठवें चक्रवर्ती राजा (सम १५४)। म देखो

मंत (उप पृ ३७४)। मई स्त्री [मती] १ इन्द्र-नामक विद्याधर-राज की एक पत्नी (पत्रम ६, ३)। २ एक राज-पत्नी (महा)। ३ एक सायंबाह-कन्या (महा)। मंगल पुं [मङ्गल] दक्षिण भारत का एक देश (उप ७६८ टी)। मंत वि [मंत] १ शोभावाला, शोभा-युक्त (कुमा)। २ पुं. तिलक वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष। ४ विष्णु। ५ शिव, महादेव। ६ ध्यान, कुत्ता (हे २, १५६; पड)। मलय न [मलय] वैताड्य की दक्षिण-श्रेणी में स्थित एक विद्याधर-नगर (इक)। महिअ पुंन [महिक] एक देव-विमान (सम २७)। महिआ स्त्री [महिता] एक पुष्करिणी (इक)। माल पुं [माल] एक प्रसिद्ध वंश (कुप्र १४३)। मालपुर न [मालपुर] एक नगर (ती १५)। यंड देखो कंड (गउड)। यंदल देखो कंदला (पएह १, १—पत्र ७)। वइ पुं [पति] श्रीकृष्ण, वासुदेव (सम्मत्त ७५)। वच्छ पुं [वत्स] १ जिनदेव आदि महापुरुषों के हृदय का एक ऊँचा अवयवाकार चिह्न (श्रीप; सम १५३; महा)। २ महेन्द्र देवलोक के इन्द्र का एक पारिव्यानिक विमान (ठा ८—पत्र ४३७)। ३ एक देव-विमान (सम ३६; देवेन्द्र १४०; श्रीप)। वच्छा स्त्री [वत्सा] भगवान् श्रेयांसनाथजी की शासन-देवी (संति ६)। वडिसय न [अवतंसक] सौधमं देवलोक का एक विमान (राज)। वण न [वन्] एक उद्यान (अंत ४)। वण्णी स्त्री [पर्णी] वृक्ष-विशेष (पएण १—पत्र ३१)। वत्त (अप) देखो मंत (मति)। वट्टण पुं [वर्धन] एक राजा (पत्रम ५, २६)। वय पुं [वद] पक्षि-विशेष (दे १, ६७; न, ५२ टी)। वारिसेण पुं [वारि-पेण] ऐरवत वर्ष में होनेवाले चौबीसवें जिनदेव (पत्र ७)। वाल पुं [पाल] १ एक प्रसिद्ध जैन राजा (सिरि ३१७)। २ राजा सिद्धराज के समय का एक जैन महाकवि (कुप्र २१६)। संभूआ स्त्री [संभूता] पक्ष की छठवीं रात (सुज्ज १०, १४)। सिचय पुं [सिचय] ऐरवत वर्ष में

उत्पन्न दूसरे जिनदेव (पत्र ७)। सेण पुं [पेण] एक राजा (उप ६८६ टी)। सेल पुं [शैल] हनुमान (पत्रम १७, १२०)। सोम पुं [सोम] भारतवर्ष में होनेवाला सातवां चक्रवर्ती राजा (सम १५४)। सोमणस पुंन [सोमनस] एक देव-विमान (सम २७)। हर न [गृह] मंडार (धा २८)। हर पुं [धर] १ भगवान् पार्थनाथ का एक मुनि-गण। २ भगवान् पार्थनाथ का एक गणधर—मुख्य शिष्य (कप्प)। ३ भारतवर्ष में अतीत उत्सर्पणी काल में उत्पन्न सातवें जिनदेव। ४ ऐरवत वर्ष में वर्तमान अक्सर्पणी काल में उत्पन्न बीसवें जिनदेव (पत्र ७; उप ६८६ टी)। ५ वासुदेव (पत्रम ४७, ४६; पड)। हर वि। [हर] श्री को हरण करनेवाला (कुमा)। हल न [फल] विल्व फल (पात्र); देखो फल।

सिरिअ पुं [श्रीक, श्रीचक] स्थूलभद्र का छोटा भाई और नन्द राजा का एक मन्त्री (पडि)।

सिरिअ न [स्वैर्य] स्वच्छन्दता (मै ७३)।

सिरिंग पुं [दे] चिट, लम्पट, कामुक (दे ८, ३२)।

सिरिहह पुंनो [दे] पक्षियों का पान-पात्र (पात्र; दे ८, ३२)।

सिरिमुह वि [दे] मद-मुह, जिसके मुह में मद हो वह (दे ८, ३२)।

सिरिया देखो सिरी (सम १५१)।

सिरिली स्त्री [दे. श्रीली] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६८)।

सिरिवच्छीव पुं [दे] गोपाल, ग्वाला (दे ८, ३३)।

सिरिवय पुं [दे] हंस पक्षी (दे ८, ३२)।

सिरिवय देखो सिरि-वय।

सिरिस पुं [शिरीष] १ वृक्ष-विशेष, सिरसा का पेड़ (सम १५२; हे १, १०१)। २ न. सिरसा का फूल (कुमा)।

सिरी स्त्री [श्री] १ लक्ष्मी, कमला (पात्र-कुमा)। २ संपत्ति, समृद्धि, विभव (पात्र-कुमा)। ३ शोभा (श्रीप; राय; कुमा)। ४

पसहद की श्रविष्ठानो देवी (ठा २, ३—  
पत्र ७२)। ५ उत्तर त्वक पर रहनेवाली  
एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७)।  
६ देव-प्रतिमा-विशेष (एयाया १, १ टी—पत्र  
४३)। ७ भगवान् कुन्धुनाय जी की माता  
का नाम (पत्र ११)। ८ एक श्रेष्ठि-कन्या  
(कुप्र १५२)। ९ एक श्रेष्ठि-पत्नी (कुप्र  
२२१)। १० देव, गुरु आदि के नाम के  
पूर्व में लगाया जाता आदर-सूचक शब्द  
(पत्र ७; कुमा; पि ६८)। ११ बाणी।  
१२ वेप-रचना। १३ धर्म आदि पुस्तकें।  
१४ प्रकार, भेद। १५ उपकरण, साधन।  
१६ बुद्धि, मती। १७ अधिकार। १८ प्रभा,  
तेज। १९ कीर्ति, यश। २० सिद्धि। २१  
वृद्धि। २२ विभूति। २३ लवंग, लौंग।  
२४ सरल वृक्ष। २५ बिल्व-वृक्ष। २६  
श्रीपवि-विशेष। २७ कमल, पद्म (हे २,  
१०४)। देखो सिस, सिरि, सी = श्री।

सिरीस देखो सिरिस (एयाया १, ६—पत्र  
१६०; श्रौप; कुमा)।

सिरीसिव पुं [सरीसृप] सप, साप (सूत्र  
१, ७, १५; पि ८१; १७७)।

सिरीं देखो सिर = शिरस्। °धरा (शौ)  
देखो °हरा (पि ३४७)। °मणि पुं [°मणि]  
प्रधान; श्रद्धा, मुख्य; 'अलससिरीमणी'  
(गा ६७०; सुपा ३०१; प्राप् २७)। °रुह  
पुं [°रुह] केश, बाल (पात्र)। °विअणा  
स्त्री [°वेदना] सिर की पीड़ा (हे १,  
१५६)। °वत्थि देखो सिर-वत्थि (राज)।  
°हरा स्त्री [°धरा] ग्रीवा, गला, डोक (पात्र;  
एयाया १, ३; स ८; अभि २२४)।

सिल° देखो सिला (कुमा)। °पवाल न  
[°प्रवाल] विद्रुम (श्रौप)।

सिलं व देखो सिलिं व (पात्र)।

सिलय पुं [दे] उल्ल, गिरे हुए अन्न-कणों  
का ग्रहण (दि ८, ३०)।

सिला स्त्री [शिला] १ सिल, चट्टान, पत्थर  
(पात्र; प्राप्र; कप्प; कुमा)। २ शोला (दस  
८, ६)। ३ जड पुं न [°जतु] शिलाजित,  
पर्वतों से उत्पन्न होनेवाला द्रव्य-विशेष, जो  
दवा के काम में आता है, शिला-रस (उप  
७२८ टी; धर्मवि १४१)।

सिलाइच्च पुं [शिलादित्य] बलभीपुर का  
एक प्रसिद्ध राजा (ती १५)।

सिलागा देखो सलागा (सं ८४)।

सिलाव (शौ) नीचे देखो। क. सिलावणीअ  
(प्रयो ६७)।

सिलाह सक [श्लाव] प्रशंसा करना।  
क. सिलाहणिञ्ज (रयण १६)।

सिलाहा स्त्री [श्लाघा] प्रशंसा (मै ८८)।

सिलिंद पुं [शिलिन्द] धान्य-विशेष (पत्र  
१५६; संवोध ४३; श्रा १८; दसनि ६, ८)।

सिलिं व पुं न [शिलीन्ध्र] १ वृक्ष-विशेष,  
छत्रक वृक्ष, भूमिस्फोट वृक्ष (एयाया १, १—  
पत्र २५; ६—पत्र १६०; श्रौप; कुमा)।  
२ पुं. पर्वत-विशेष (स २५२)। °निलय  
पुं [°निलय] पर्वत-विशेष (स ४२४)।

सिलिं व पुं [दे] शिशु, बच्चा (दि ८, ३०;  
सुर ११, २०६; सुपा ३४)।

सिलिट्ट वि [शिलिट्ट] १ मनोज्ञ, सुन्दर;  
'अद्वैतविसम्पन्नाणमजयमुकुमालकुम्भसंठिय-  
सिलिट्टचरणा' (परह १, ४—पत्र ७६)।  
२ संगत, सुयुक्त (श्रौप)। ३ आलिङ्गित।  
४ संसृष्ट। ५ श्लेषालंकार-युक्त (हे २, १०६;  
प्राप्र)।

सिलिपइ देखो सिलिपइ (राज)।

सिलिंह पुं स्त्री [श्लेष्मन्] श्लेष्मा, कफ  
(हे २, ५५; १०६; पि १३६)। देखो  
सेम्ह।

सिलिया स्त्री [शिलिका] १ धिरेता आदि  
वृण, श्रौपवि-विशेष। २ पापाण-विशेष,  
शत्रु को तीक्ष्ण करने का पापाण (एयाया १,  
१३—पत्र १८१)।

सिलिसिअ देखो सिलिट्ट (कुमा ७, ३५)।

सिलिपइ वि [श्लोपदिन्] श्लोपद नामक  
रोगवाला, जिससे पैर फुला हुआ और कठिन  
हो जाता है उस रोग से युक्त (आचा; वृह १)।

सिलीमुह पुं [शिलीमुख] १ बाण, तीर  
(पात्र; सुर ६, १४)। २ रावण का एक  
योद्धा (पउम ५६, ३६)।

सिलीस देखो सिलेस = श्लिप्। सिलीसइ  
(भवि)। सिलीसति (सूत्र २, २, ५५)।

सिलिचय पुं [शिलोचय] १ मेरु पर्वत  
(सुज ५)। २ पर्वत, पाहाड़ (रंभा)।

सिलेच्छिय पुं [शिलैक्षिक] मत्स्य-विशेष  
(जीव १ टी—पत्र ३६)।

सिलेम्ह देखो सिलिम्ह (पड्)।

सिलेस सक [शिलिप्] आलिङ्गन करना,  
भेंटना। सिलेसइ (हे ४, १६०)।

सिलेस पुं [श्लेप] १ वज्रनेप आदि संवान  
(सूत्रनि १८५)। २ आलिङ्गन, भेंट (सुर  
१६, २४३)। ३ संसर्ग। ४ दाह (हे २,  
१०६; पड्)। ५ एक शब्दालंकार (सुर  
१, ३६; १६, २४३)।

सिलेस देखो सिलिम्ह (अनु ५)।

सिलोअ } पुं [श्लोक] १ कविता, पद्य,  
सिलोग } काव्य (मुद्रा १६८; सुपा ५६४;  
श्रजि ३; महा)। २ यश, कीर्ति (सूत्र १,  
१३, २२; हे २, १०६)। ३ कला-विशेष,  
कवित्व, काव्य बनाने की कला (श्रौप)।

सिलोचय देखो सिलुचय (पात्र; सुर १, ७;  
राज)।

सिलि पुं [दे] १ कुन्त, बुरा, शत्रु-विशेष  
(सुपा ३११; कुप्र २८; काल; सिरि ४०३)।  
२ पोत-विशेष, एक प्रकार का जहाज (सिरि  
३८३)।

सिल्ला देखो सिला। २ पुं [°कार] शिला-  
वट, पत्थर गढ़नेवाला शिल्पी (ती १५)।

सिलहग न [सिह्लक] गन्ध-द्रव्य-विशेष  
(राज)।

सिल्ला स्त्री [दे] शीत, जाड़ा (से १२, ७)।

सिव न [शिव] १ मङ्गल, कल्याण। २  
सुख (पात्र; कुमा; गउड)। ३ अहिंसा (परह  
२, १—पत्र ६६)। ४ पुं. मुक्ति, मोक्ष  
(पात्र; सम्मत ७६; सम १; कप्प; श्रौप;  
पडि)। ५ वि. मङ्गल-युक्त, उपद्रव-रहित  
(कप्प; श्रौप; सम १; पडि)। ६ पुं. महादेव  
(एयाया १, १—पत्र ३६; पात्र; कुमा;  
सम्मत ७६)। ७ जिनदेव, तीर्थंकर, अहंन्  
(पउम १०६, १२)। ८ एक राजपि, जिसने  
भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (ठा  
८—पत्र ४३०; भग ११, ६)। ९ पाँचवें  
वासुदेव तथा बलदेव का पिता (सम १५२)।  
१० देव-विशेष (राय; अणु)। ११ पौष  
मास का लोकोत्तर नाम (सुज १०, १६)।

१२ एक देव-विमान (देवेन्द्र १४३) । १३ छन्द-विशेष (पिप) । १०कर न [०कर] १ शैलेशी अत्रस्या की प्राप्ति । २ मुक्ति-मार्ग (सूत्रनि ११५) । १ गइ छो [०गति] १ मुक्ति, मोक्ष । २ वि. मुक्त, मुक्ति-प्राप्त (राज) । ३ पुं. भारतवर्ष में अतीत उत्स-पिणी-काल में उत्पन्न चौदहवें जिन-देव (पव ७) । १ तिथि न [०तीर्थ] काशी, बनारस (हे ४, ४४२) । १ नंदा छो [०नन्दा] आनन्द-श्रावक की पत्नी (उवा) । १ भूइ पुं [०भूति] १ एक जैन महर्षि (कम्प) । २ बोटिक मत—दिगंबर जैन संप्रदाय का स्थापक एक मुनि (विसे २५५१) । १ रत्ति छो [०रात्रि] फाल्गुन (गुजरातो माघ) मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि (सट्टि ७८ टो) । १ सेण पुं [०सेन] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एक अर्हन् (सम १५३) ।

सिवंकर पुं [शिवङ्कर] पाँचवे केशव का पिता (पञ्चम २०, १८२) ।

सिवक } पुं [शिवक] १ घड़ा तैयार होने  
सिवय } के पूर्व की एक अवस्था (विसे २३१६) । २ बेलन्वर नागराज का एक श्रावस-पर्वत (इक) ।

सिवा छो [शिवा] १ भगवान नेमिनाथ जी की माता का नाम (सम १५१) । २ सौधमं देवलोक के इन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ८—पत्र ४१६; राया २—पत्र २५३) । ३ पनरहवें जिनदेव की प्रवर्तिनी—मुख्य साध्वी (पव ६) । ४ श्रृगाली, मादा सियार (अणु; वज्जा ११८) । ५ पार्वती (पात्र) ।

सिवाणंदा देखो सिव-नंदा (उवा) ।

सिवासि पुं [शिवासिन्] भरतक्षेत्र में अतीत उत्सपिणी-काल में उत्पन्न बारहवें जिनदेव (पव ७) ।

सिविण देखो सुमिण (हे १, ४६; प्राग् रंभा; कुमा; कण्ठ) ।

सिविया छो [शिविका] सुवासन, पालकी, डोली (कम्प; औप; महा) ।

सिविर न [शिविर] १ स्कन्धावार, सैन्य-निवास-स्थान, छावनी (कुमा) । २ सैन्य, सेना, लश्कर (सुपा ६) ।

सिव्य सक [सीव्] सीना, साँवना । सिव्वइ (पड्, विसे १३६८) । भवि. सिव्वि-स्सामि (आचा १, ६, ३, १) ।

सिव्य देखो सिव = शिव (प्राक् २६; संक्षि १७) ।

सिव्विअ वि [स्यून्] सिया हुग्रा (पव ६२) । सिव्विणी } छो [दे] सूची, सूई (दे ८, सिव्वी } २६) ।

सिस देखो सिल्लेस = शिल्प । सिसइ (पड्) । सिसिर न [दे] दधि, दही (दे ८, ३१; पात्र) ।

सिसिर पुं [शिशिर] १ ऋतु-विशेष, माघ तथा फागुन का महिना (उप ७२८ टो; हे ४, ३५७) । २ माघ मास का लोकोत्तर (सुज्ज १०, १६) । ३ फागुन मास; 'सिसिरो फग्गुण-माहो' (पात्र) । ४ वि. जड, ठंडा, शीतल (पात्र; उप ७६८ टो) । ५ हलका (उप ७६८ टो) । ६ न. हिम (उप ६८६ टो) । १ किरण पुं [०किरण] चन्द्रमा (धर्मवि ५) । १ महीहर पुं [०महीधर] हिमालय पर्वत (उप ६८६ टो) ।

सिसिरली देखो सिसिरिली (राज) ।

सिसु पुं [शिशु] बालक, बच्चा (सुपा ५८८; सम्मत १२२); 'सा खाइ पायमेक्कं सिमूणि वीयं पढमपहरे' (कुप्र १७३) । १ आल पुं [०काल] बाल्य, बाल-काल (नाट—चेत ३७) । १ नाग पुं [०नाग] बुद्ध कीट-विशेष, भ्रलस (उत्त ५, १०) । १ पाल पुं [०पाल] एक प्रसिद्ध राजा (राया १, १६—पत्र २०८; सूत्र १, ३, १, १; उप ६४८ टो; कुप्र २५६) । १ यव पुं [०यव] तुण-विशेष (परण १—पत्र ३३) । १ वाल देखो १ पाल (सूत्र १, ३, १, १ टो) ।

सिस्स पुं [शिष्य] १ चेला, छात्र, विद्यार्थी (राया १, १—पत्र ६०; सूत्रनि १२७) । छो. १ रसा, १ सिंसणी (मा ६; राया १, १४—पत्र १८८) ।

सिस्स देखो सीस = शोष (सस ५०) ।

सिसिरिली छो [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६८) ।

सिह सक [स्युह्] इच्छा करना, चाहना । सिहइ (हे ४, ३४; प्राक् २३) । क. सिह-णिज्ज (दे ८, ३१ टो) ।

सिह पुं [दे] भुजपरिसर्प की एक जाति (सूत्र २, ३, २५) ।

सिहंड पुं [शिखण्ड] शिखा, चूला, चोटो (पात्र; अग्नि १५१) ।

सिहंडइल्ल पुं [दे] १ बालक, शिशु । २ दधि-सर, दही की मलाई । मयूर. मोर (दे ८, ५४) ।

सिहंडइल्ल पुं [दे] बालक, बच्चा (पड्) ।

सिहंडि वि [शिखण्डिन्] १ शिखाधारी (भत १००; औप) । २ पुं. मयूर-पक्षी, मोर (पात्र; उप ७२८ टो) । ३ विष्णु (सुपा १४२) ।

सिहण देखो सिहिण (रंभा) ।

सिहर न [शिखर] १ पर्वत के ऊपर का भाग, श्रृङ्ग (पात्र; गउड; सुर ४, ५६; से ६, २८) । २ अग्रभाग (राया १, ६) । ३ लगातार अठारह दिनों के उपवास (संबोध ५८) । १ अग वि [०चण] शिखरों से प्रसिद्ध (से ६, १८) ।

सिहरि पुं [शिखरिन्] १ पहाड़, पर्वत (पात्र; सुपा ४६) । २ वर्षंवर पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ६६; सम १२; ४३) । ३ पुं. कूट-विशेष (ठा २; ३—पत्र ७०) । १ वइ पुं [०पति] हिमालय पर्वत (से ८, ६२) ।

सिहरिणी } छो [दे. शिखरिणी] मज्जिता  
सिहरिल्ला } खाद्य-विशेष, दही-चीनी आदि से बनता एक तरह का मिष्ट खाद्य (दे १, १५४; ८, ३३; परह २, ५—पत्र १४८; पव ४; पभा ३३; कस; सण) ।

सिहली } छो [शिखा] १ चोटो, मस्तक  
सिहा } पर के बालों का गुच्छा (पंचा १०; ३२; पव १५३; पात्र; राया १, ५—पत्र १०८; संबोध ३१) । २ अग्नि की ज्वाला (पात्र; कुमा; गउड) ।

सिहाल वि [शिखावत्] शिखावाला, शिखा-युक्त (गउड) ।

सिहि पुं [शिखिन्] १ अग्नि, आग (गा १३; पात्र; सुपा ५१६) । २ मयूर, मोर (पात्र; हेका ४५; गा ५२; १७३) । ३ रावण का एक सुभट (पञ्चम ५६, ३०) । ४ पर्वत । ५ ब्राह्मण । ६ मुर्गा । ७ केतु

ग्रह । ८ वृक्ष । ९ अरव । १० चित्रक-वृक्ष ।  
 ११ मयूरशिखा-वृक्ष । १८ वकरे का रोम ।  
 १३ वि. शिखा-युक्त (अणु १४२) ।  
 सिंहि पुं [दे] कुक्कुट, मुर्गा (दे ८, २८) ।  
 सिंहिअ वि [स्पृहित] अभिलपित (कुमा) ।  
 सिंहिण पुंन [दे] स्तन, यन (दे ८, ३१;  
 सुर १, ६०; पात्र; पड; रंभा; सुपा ३२;  
 भवि; हम्मोर ५०; सम्मत्त १६१) ।  
 सिंहिणी स्त्री [शिखिनी] छन्द-विशेष  
 (पिग) ।  
 सिंही (अप) स्त्री [सिंही] छन्द-विशेष  
 (पिग) ।  
 सी (अप) स्त्री [श्री] छन्द-विशेष (पिग) ।  
 देखो सिरी ।  
 सीअ अक्र [सद्] १ विपाद करना, खेद  
 करना । २ थकना । ३ पीड़ित होना, दुःखी  
 होना । ४ फलना, फल लगना । सीअइ,  
 सीअंति (पि ४८२; गा ८७४); 'जया सीवर्द्धि  
 सीयइ' (पिड ८२), 'सीयंति य सव्वअंगइ'  
 (सुर १२, २) । वक्र. सीअंत (पात्र ५०७;  
 सुपा ५१०; कुप्र ११८) ।  
 सीअ न [दे] सिक्क, मोम (दे ८, ३३) ।  
 सीअ वि [स्वीय] स्वकीय, निज का; 'सीयते-  
 यलेस्तापडिसाहरणदुयाए', 'सीयोसिणा तेय-  
 लेस्ता' (भग १५—पत्र ६६६) ।  
 सीअ देखो सिअ = सित; 'सीआसीअं (प्राप्र) ।  
 सीअ पुंन [शीत] १ स्पर्श-विशेष, ठंडा स्पर्श  
 (ठा १—पत्र २५; पव ८६) । ३ हिम,  
 तुहिन (से ३, ४७) । ३ शीत-काल (राज) ।  
 ४ ठंडा, जाड़ा (ठा ४, ४—पत्र २८७; औप;  
 गउड; उत २, ६) । ५ कर्म-विशेष, शीत  
 स्पर्श का कारण-भूत कर्म (कम्म १, ४१;  
 ४२) । ६ वि. शीतल, ठंडा (भग; औप;  
 णाया १, १ टी—पत्र ४) । ७ पुं. प्रथम  
 नरक का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ४) । ८  
 न. तप-विशेष, आर्यविल तप (संवोध ५८) ।  
 ९ वि. अनुकूल (सुप्र १, २, २, २२) ।  
 १० न. मुख (आत्ता) । ११ घर न [गृह]  
 चक्रवर्ती का वर्किक-निमित्त वह घर, जहाँ सर्व  
 ऋतु में स्थैरी की अनुकूलता होती है (वव ३) ।  
 १२ च्छाय वि [च्छाय] शीतल छायावाला

(औप; णाया १, १ टी—पत्र ४) । १३ परीसह  
 पुं [परीसह] शीत को सहना (उत २,  
 १) । १४ फास पुं [स्पृश] ठंडा, जाड़ा, सर्दी  
 (आत्ता) । १५ सोआ स्त्री [श्रोता, स्रोता]  
 नदी-विशेष (इक; ठा ३, ४—पत्र १६१) ।  
 १६ लोअअ पुं [लोअक] १ चन्द्रमा । २  
 शीतकाल, हिम-ऋतु (से ३, ४७) ।  
 सीअं देखो सीआ = शीता । १७ पसाय पुं  
 [प्रपात] ब्रह्म-विशेष, जहाँ शीता नदी पहाड़  
 पर से गिरती है (ठा २, ३—पत्र ७२) ।  
 सीअं देखो सीआ = सीता (कुमा) ।  
 सीअउरय पुं [दे. शीतोरस्क] गुल्म-विशेष,  
 'पत्तउरसीयउरए हवइ तह जवात्सए य बोधवे'  
 (परण १—पत्र ३२) ।  
 सीअण न [सदंन] हैरानी (सम्मत्त १६६) ।  
 सीअणय न [दे] १ दुग्ध-पारी, दूध दोहने  
 का पात्र । २ श्मशान, मसान (दे ८, ५५) ।  
 सीअर पुं [शीकर] १ पवन से क्षित जल,  
 फुहार, जल-कण (हे १, १८४; गउड; कुमा;  
 सण) । २ वायु, पवन (हे १, १८४; प्राक  
 ८४) ।  
 सीअरि वि [शीकरिन्] शीकर-युक्त (गउड) ।  
 सीअल पुं [शीतल] १ वर्तमान अबसर्पिणी  
 काल के दसवें जिन-देव (सम ४३; पडि) ।  
 २ कृष्ण पुद्गल-विशेष (सुज २०) । ३ वि.  
 ठंडा (हे ३, १०; कुमा, गउड; रयण ५७) ।  
 सीअलिया स्त्री [शीतलिका] १ ठंडी, शीतला;  
 'सीयलियं तेप्रलेत्सं निस्सिरामि' (भग १५—  
 पत्र ६६६) । २ लूता-विशेष (राज) ।  
 सीअल्लि पुंनो [दे] १ हिमकाल का दुदिन ।  
 २ वृक्ष-विशेष (दे ८, ५५) ।  
 सीआ स्त्री [शीता] १ एक महा-नदी (सम  
 २७; १०२; इक) । २ ईपत्त्राभारा-नामक  
 पृथिवी, सिद्ध-शिला (इक) । ३ शीताप्रपात  
 ब्रह्म की अविष्ठात्री देवी (जं ४) । ४ नील  
 पर्वत का एक शिखर । ५ माल्यवत् पर्वत का  
 एक कूट (इक) । ६ पश्चिम रुक्क पर रहने-  
 वाली दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६) ।  
 ७ मुह न [मुख] एक वन (जं ४) ।  
 सीआ स्त्री [सीता] १ जनक-मुता, राम-पत्नी  
 (पउम ३८, ५६) । २ चतुर्थ वासुदेव की

माता का नाम (पउम २०, १८४; सम  
 १५२) । ३ लाङ्गल-पद्धति, खेत में हल  
 चलाने से होती भूमि-रेखा (दे २, १०४) ।  
 ४ ईपत्त्राभारा नामक पृथिवी (उत ३६,  
 ६२; चेइय ७२५) । ५-६ नील तथा माल्य-  
 वत् पर्वतों के शिखर-विशेष (इक) । ७ एक  
 दिक्कुमारी देवी (ठा ८) ।  
 सीआ देखो सिविया (कप्प; औप; सम  
 १५१) ।  
 सीआण देखो मसाण = श्मशान (हे २, ८६;  
 वव ७) ।  
 सीआर देखो सिद्धार (णाया १, १—पत्र  
 ६३) ।  
 सीआला स्त्री [सप्तचत्वारिंशत्] सैतालीस,  
 ४७; (कम्म ६, २१) ।  
 सीआलीस स्त्री. ऊपर देखो (पि ४४५;  
 ४४८) । स्त्री. सा (सुज्ज २, ३—पत्र  
 ५१) ।  
 सीआव सक [सादय] शिथिल करना,  
 'सीयावेइ विहारं' (गच्छ १, २३) ।  
 सीइआ स्त्री [दे] झड़ी, निरन्तर वृष्टि (दे  
 ८, ३४) ।  
 सीइय वि [सन्न] खिन्न, परिथान्त (स ८५) ।  
 सीई स्त्री [दे] सीढ़ी, निःश्रेणि (पिड ६८) ।  
 सीउग्गय वि [दे] सुजात (दे ८, ३४) ।  
 सीउट्ट न [दे] हिम-काल का दुदिन (पड) ।  
 सीउण्ह न [शीतोष्ण] १ ठंडा तथा गरम ।  
 २ अनुकूल तथा प्रतिकूल (सुप्र १, २, २,  
 २२; पि १३३) ।  
 सीउल्ल देखो सीउट्ट (पड) ।  
 सीओअं देखो सीओआ । १ पसाय पुं  
 [प्रपात] कुएड-विशेष, जहाँ शीतोदा नदी  
 पहाड़ से गिरती है (जं ४—पत्र ३०७) ।  
 २ दीव पुं [द्वीप] द्वीप-विशेष (जं ४—पत्र  
 ३०७) ।  
 सीओआ स्त्री [शीतोदा] १ एक महा-नदी  
 (ठा २, ३—पत्र ७२; इक; सम २७;  
 १०२) । २ निपव पर्वत का एक कूट (ठा  
 ६—पत्र ४५४) ।  
 सीकोत्तरी स्त्री [दे] नारी, स्त्री, महिला (सिरि  
 ३६०) ।

सीत देखो शीअ = शीत (डा ३, ४—पत्र १६१)।

सीता देखो सीआ = शीता, सीता (डा ८—पत्र ४३६; ९—पत्र ४५४)।

सीतालीस देखो सीआलीस (सुज २, ३—पत्र ५१)।

सीतोद° देखो सीओअ° (डा २, ३—पत्र ७२)।

सीतोदा } देखो सीओआ (पह २, ४—  
सीतोदा } पत्र १३०; सम ८४)।

सीदण न [सदण] शैविल्य, प्रमत्ता (पंचा १२, ४६)।

सीधु देखो सीहु (गाया १, १६—पत्र २०६ उवा)।

सीभर देखो सीअर (प्राप्र; कुमा; हे १, १८४; पङ्)।

सीभर वि [दे] समान, तुल्य (अणु १३१)।

सीमथा स्त्री [सीमन्] १ मर्यादा। २ अश्वि। ३ स्थिति। ४ क्षेत्र। ५ वेला, समय। ६ अण्डकोप, पोता (पङ्)। देखो सीमा।

सीमंकर पुं [सीमङ्कर] १ इस अश्विपणी काल में उत्पन्न एक कुलकर पुरुष का नाम (पउम ३, ५३)। २ ऐरवत क्षेत्र के भावी द्वितीय कुलकर (सम १५३)। ३ वि. मर्यादा-कर्ता (सुप्र २, १, १३)।

सीमंन पुं [सीमन्त] १ वालों में बनाई हुई रेखा-विशेष (से ६, २०; गउड; उप ७२८ टी)। २ अपर काय (गउड ८५)। ३ ग्राम से लगी हुई भूमि का अन्त, सीमा, गाँव का पर्यन्त भाग (गउड २७३; २७७; उप ७२८ टी)। ४ सीमा का अन्त, हद्द; 'एसो चिय सीमंतो गुणारा हूरं फुरंताए' (गउड)।

सीमंत पुं [सीमान्त] १ सीमा का अन्त भाग, गाँव का पर्यन्त भाग (गउड ३६७; ४०५)। २ हद्द (गउड ८८३)।

सीमंत सक [दे. सीमान्त्य] बेचना। संक्र. सीमंतिऊण (राज)।

सीमंतग } पुं [सीमन्तक] प्रथम नरक-भूमि  
सीमंतय } का एक नरकावास, नरक-स्थान (निचु १; डा ३, १—पत्र १२६; सम ६८)।

°पुंभ पुं [°प्रभ] सीमन्तक नरकावास की पूर्व तरफ स्थित एक नरकावास (देवेन्द्र २०)। °मडिङ्गम पुं [°मध्यम] सीमन्तक की उत्तर तरफ स्थित एक नरकावास (देवेन्द्र २०)। °वसिट्टु पुं [°वशिष्ट] सीमन्तक की दक्षिण दिशा में स्थित एक नरकावास (देवेन्द्र २१)। °वत्त पुं [°वर्त] सीमन्तक की पश्चिम तरफ का एक नरकावास (देवेन्द्र २१)।

सीमंतय न [दे] सीमंत—वालों की रेखा-विशेष में पहना जाता अलंकार-विशेष (दे ८, ३५)।

सीमंतिअ वि [सीमन्तित] खरिडत, छिन्न (पाप्र)।

सीमंतिणी स्त्री [सीमन्तिनी] स्त्री, नारी, महिला (पाप्र; उप ७२८ टी; सम्पत्त १६१; सुपा ७)।

सीमंधर पुं [सीमंधर] १ भारतवर्ष में उत्पन्न एक कुलकर पुरुष (पउम ३, ५३)। २ ऐरवत वर्ष का एक भावी कुलकर (सम १५३)। ३ पूर्व-विदेह में वर्तमान एक अर्हव देव (काल)। ४ एक जैन मुनि, जो भगवान् सुमतिनाय के पूर्व जन्म में पुत्र थे (पउम २०, १७)। ५ भगवान् शीतलनाय जी का मुख्य श्रावक (विचार ३७८)। ६ वि. मर्यादा को वारण करनेवाला, मर्यादा का पालक (सुप्र २, १, १३)।

सीमा स्त्री [सीमा] देखो सीमथा (पाप्र; गा १६८; ७५१; काल; गउड)। °गार पुं [°कार] जलजन्तु-विशेष, ग्राह का एक भेद (पह १, १—पत्र ७)। °धर वि [°धर] मर्यादा-वारक (पडि; हे ३, १३४)। °ल वि [°ल] सीमा के पालक का, सीमा के निकट-वर्ती; 'सीमाला नरवइणो सन्वे ते सेवमावत्ता' (सुपा २२२; ३५२; ४६३; धर्मवि ५६)।

सीर पुंन [सीर] हल, जिससे खेत जोतते हैं (पउम ११३, ३२; कुमा; पडि); 'संसयवसु-हासीरो' (धर्मवि १६)। °धारि पुं [°धारिन्] बलदेव, बलनद्र, राम (पउम २०, १६३)। °पाणि पुं [°पाणि] वही (दे २, २३; कुमा)। °सीमंत पुं [°सीमन्त] हल से फाड़ी हुई जमीन की रेखा (दे)।

सीरि पुं [सीरिन्] बलनद्र, बलदेव (पाप्र)। सीरिअ वि [दे] निन्न, 'सीरियो निन्नो' (पाप्र)।

सील सक [शीलय] १ अम्यास करना, श्राद्ध डालना। २ पालन करना; 'सीलेजा सीलमुजलं' (हित १६); 'सव्वसीलं सीलह पव्वज्जगहणेण' (था १६)। देखो सीलाय।

सील न [शील] १ चित्त का समाधान, 'सीलं चित्तसमाहाणलक्खणं भएणए एयं' (उप ५६७ टी)। २ ब्रह्मचर्य (प्रासू २२; ५१; १५४; १६६; था १६; हित १६)। ३ प्रकृति, स्वभाव; 'सीलं पयई' (पाप्र); 'कलहसीलं' (कुमा)। ४ सदाचार, चारित्र्य, उत्तम वर्तन (कुमा; पंचा १४, १; पह २, १—पत्र ६६)। ५ चरित्र, वर्तन (हे २, १८४)। ६ अहिंसा (पह २, १—पत्र ६६)। °इ पुं [°जित्] क्षत्रिय परिव्राजक का एक भेद (श्रीप)। °ड्ढ वि [°ड्ढ] शील-पूर्ण (श्रीप ७८४)। °परिधर पुंन [°परिगृह] १ चारित्र्य-स्थान। २ अहिंसा (पह २, १—पत्र ६६)। °मंत, °व वि [°वन्] शील-युक्त (आचा; श्रीप ७७७; था ३६)। °व्वय न [°व्रत] अणुव्रत, जैन श्रावक के पालने योग्य अहिंसा आदि पांच व्रत (भग)। °सालि वि [°शालिन्] शील से शोभनेवाला (सुपा २४०)।

सीलाय सक [शीलय] तंदुस्त करना। कर्म. सीलप्पए (वव १)।

सीलुट्ट न [दे] नपुंस, खीरा, ककड़ी (दे ८, ३५; पाप्र)।

सीव सक [सीव] सीना, सिलाई करना, साँचना। भवि. सीविस्सामि (आचा)। संक्र. सीविऊण (स ३५०)।

सीवणा स्त्री [सीवना] सीना, सिलाई (उप पृ. २६८)।

सीवणी स्त्री [दे] सूची, सुई (गउड)। देखो सिन्धिणी।

सीवणी } स्त्री [श्रीपर्णी] बुद्ध-विशेष (श्रीप  
सीवणी } ४४६ टी; पडि ८१; ८२; उप १०३१ टी)।

सीविअ देखो सिन्धिअ (से १४, २८; दे ४, ७; श्रीवना ३१५)।

सीस सक [शिप्] १ वव करना, हिसा करता । २ शेष करना, बाकी रखना । ३ विशेष करना । सीसइ (हे ४, २३६; पड्) ।

सीस सक [कथय्] कहना । सीसइ (हे ४, २; भवि) ।

सीस न [सीस] धातु-विशेष, सीसा (दे २, २७) ।

सीस देखो सिस्स = शिष्य (हे १, ४३; कुमा; दं ४७; णाया १, ५—पत्र १०३) ।

सीस पुंन [शीर्षे] १ मस्तक, माया (स्वप्न ६०; प्रासू ३) । २ स्तवक, गुच्छा (आवा २, १, ८, ६) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) ।

°अ न [°क] शिरब्राण (विष्णो ११०) । °घडी छी [°घटी] सिर की हड्डी (तंदु ३८) । °पर्कपिअ न [°प्रकम्पित] संख्या-विशेष, महालता को चौरासी लाख से गुनने पर जो संख्या लव्व हो वह (इक) । °पहेलिअ

छीन [°प्रेहलिक] संख्या-विशेष, शोपंप्रेहलिकांग को चौरासी लाख से गुनने पर जो संख्या लव्व हो वह (इक) । छी. °आ (ठा २, ४—पत्र ८६; सम ६०; अणु ६६) ।

°पहेलियंग न [°प्रेहलिकाङ्ग] संख्या-विशेष, चूलिका को सौरासी लाख से गुनने पर जो संख्या लव्व हो वह (ठा २, ४—पत्र ८६; अणु ६६) । °पूरग, °पूरय पुं [°पूरक]

मस्तक का आभरण (राज; तंदु ४१) । °रूपक, °रुअ (अप) । पुंन [°रूपक] छन्द-विशेष (पिंग) । °वेढ पुं [°वेष्ट]

गोले चमड़े आदि से मस्तक को लपेटना (सम ५०) ।

सीस° देखो सास = शास् ।

सीसक न [दे. शीर्षक] शिरब्राण, मस्तक का कवच (दे ८, ३४; से १५, ३०) ।

सीसम पुंन [दे.] सीसम का गाछ, शिशपा (उप १०३१ टी) ।

सीसय वि [दे.] प्रवर, श्रेष्ठ (दे ८, ३४) ।

सीसय न [सीसक] देखो सीस = सीस (महा) ।

सीसवा छी [शिशपा] सीसम का गाछ (पण १—पत्र ३१) ।

सीह पुं [सिंह] १ धापद जन्तु-विशेष, केसरी, मृग-राज (पएह १, १—पत्र ७; प्रासू ५१; १७१) । २ वृक्ष-विशेष, सहजने का पेड़ (हे १, १४४; प्राप्र) । ३ राशि-विशेष, मेष से पाँचवीं राशि (विचार १०६) । ४ एक

अनुत्तर देवलोक-गामी जैन मुनि (अनु २) । ५ एक जैन मुनि, जो आर्य-वर्म के शिष्य थे (कप्प) । ६ भगवान् महावीर का शिष्य एक मुनि (भग १५—पत्र ६८५) । ७ एक

विद्याधर सामन्त राजा (पउम ८, १३२) । ८ एक श्रेष्ठि-पुत्र (सुपा ५०६) । ९ एक देव-विमान (सम ३३; देवेन्द्र १४०) । १० एक जैन आचार्य, जो रवतीनक्षत्र नामक

आचार्य के शिष्य थे (संदि ५१) । ११ छन्द-विशेष (पिंग) °उर न [°पुर] नगर-विशेष (सण) । °कंत पुंन [°कान्त] एक देव-विमान (सम ३३) । °कडि पुं [°कटि]

रावण का एक योद्धा (पउम ५६, २७) । °कण्ण पुं [°कर्ण] एक अन्तर्द्वीप (इक) । °कण्णो छी [°कर्णी] कन्द-विशेष (उत्त ३६, १००) । °केसर पुं [°केसर] १

आस्तरण-विशेष, जटिल कम्बल (णाया १, १—पत्र १३) । २ मोदक-विशेष (अंत ६; पिड ४८२) । °गइ पुं [°गति] अमितगति तथा अमितवाहन नामक इन्द्र का एक-एक

लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) । °गिरि पुं [°गिरि] एक प्रसिद्ध जैन महर्षि (उव; उप १४२ टी; पडि) । °गुहा छी [°गुहा] एक चोर-पत्नी (णाया १, १८—पत्र २३६) ।

°चूड पुं [°चूड] विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, ४६) । °जस पुं [°यशस्] भरत चक्रवर्ती का एक पौत्र (पउम ५, ३) ।

°गाय पुं [°नाद] सिंहगर्जन, सिंह की गर्जना के तुल्य आवाज (भग) । °णिक्कीलिय न [°निक्कीलित] १ सिंह की गति । २ तप-विशेष (अंत २८) । °णिसाइ देखो

°निसाइ (राज) । °दुवार न [°द्वार] राज-द्वार, राज-प्रासाद का मुख्य दरवाजा (कुप्र ११६) । °द्वय पुं [°ध्वज] १

विद्याधरवंश का एक राजा (पउम ५, ४३) । २ हरिपेण चक्रवर्ती के पिता का नाम (पउम ८, १४४) । °नाय देखो °गाय (पएह १,

३—पत्र ४५) । °निक्कीलिय, °निक्कीलिय देखो °णिक्कीलिय (पव २७१; अंत २८; णाया १, ८—पत्र १२२) । °निसाइ वि [°निपादिन्] सिंह की तरह बैठनेवाला (सुज १०, ८ टी) । °णिसिज्जा छी [°निपद्या] भरत चक्रवर्ती द्वारा अष्टापद पर्वत पर बनवाया हुआ जैन मन्दिर (ती ११) ।

°पुच्छ न [°पुच्छ] षष्ठ-वर्ष, पीठ की चमड़ी (सूयति ७७) । °पुच्छण न [°पुच्छन] पुरुष-चिह्न का तोड़ना, लिंग-श्रोटन (पएह २, ५—पत्र १५१) । °पुच्छिय वि [°पुच्छित] १ जिसका पुरुष-चिह्न तोड़ दिया गया हो वह । २ जिसको कृकटिका से लेकर पुत-प्रदेश—नितम्ब तक की चमड़ी उखाड़ कर सिंह के पुच्छ के तुल्य की जाय वह (श्रोप) । °पुरा, °पुरी छी [°पुरी]

नगरी-विशेष, विजय-क्षेत्र की एक राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०; इक) । °मुह पुं [°मुख] १ अन्तर्द्वीप-विशेष । २ उसमें रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४, २—पत्र २२६; इक) । °रव पुं [°रव] सिंह-गर्जना, सिंह-नाद, सिंह की तरह आवाज (पउम ४४, ३५) । °रह पुं [°रथ] गन्धार देश के पुंड्र-वर्धन नगर का एक राजा (महा) । °वाह पुं [°वाह] विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, ४३) । °वाहण पुं [°वाहन] राक्षस-वंश का एक राजा (पउम ५, २६३) । °वाहणा छी [°वाहना] अम्बिका देवी (राज) । °विक्रमगइ पुं [°विक्रमगति] अमितगति तथा अमितवाहन नामक इन्द्र का एक-एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८; इक) । °वीअ पुंन [°वीत] एक देव-विमान (सम ३३) । °सेण पुं [°सेन] चौदहवें जिनदेव का पिता, एक राजा (सम १५१) । २ भगवान् अजितनाथ का एक गणवर (सम १५२) । ३ राजा श्रेणिक का एक पुत्र (अनु २) । ४ राजा महासेन का एक पुत्र (विपा १, ६—पत्र ८६) । ५ ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव (राज) । °सोआ छी [°स्रोता] एक नदी (ठा २, ३—पत्र ८०) । °वलोइअ न [°वलोकिन] सिंहावलोकन, सिंह की तरह चलते हुए पीछे की तरफ



देखना (महा) । °सिण न [°सिन] आसन-  
विशेष, सिंहाकार आसन, सिंहाङ्कित आसन,  
राजासन (भग) । देखो सिंह ।

सीह वि [सैह] सिंह-संबन्धी । श्री. °हा  
(गाथा १; ?—पत्र ३१) ।

°सीह पुं [°सिह] श्रेष्ठ, उत्तम (सम १; पडि) ।

सीहंडय पुं [दे] नक्षत्र, मछली (दे ८, २८) ।

सीहणही श्री [दे] ? वृद्ध-विशेष, करीबी का  
गाछ । २ करीबी का फल (दे ८, ३५) ।

सीहपुर वि [सैहपुर] सिंहपुर-संबन्धी (पत्रम  
५५, ५३) ।

सीहर देखो सीअर (हे १, १८४; कुमा) ।

सीहरय पुं [दे] आसार, जोर की कृष्टि (दे  
८, १२) ।

सीहल देखो सिहल (परह १, १—पत्र  
१४; इका पत्रम ६६, ५५) ।

सीहलय पुं [दे] वस्त्र आदि को धूप देने का  
यन्त्र (दे ८, ३४) ।

सीहलिआ श्री [दे] ? शिवा, चोटी । २  
नवमालिका, नवारी का गाछ (दे ८, ५५) ।

सीहलिपासन पुंन [दे] ऊन का बना हुआ  
कंकण, जो वेणी बाँधने के काम में आता  
है (सूत्र १, ४, २, ११) ।

सीही श्री [सिही] श्री-सिंह, सिंह की मादा  
(नाट) ।

सीह पुंन [सीधु] ? मद्य, दाह । २ मद्य-  
विशेष (परह २, ५—पत्र १५०; दे १,  
४६; पात्र; गा ५४५; मा ४३) ।

सु अ [सु] इन अर्थों का नूतक अव्यय—१  
प्रयत्न, आधा (विसे ३४४३; सूत्रनि ८८) । २  
अतिशय, अत्यन्तता (ध्रु १६) । ३  
समीचीनता (सट्टि १६) । ४ अतिशय  
योग्यता (पिग) । ५ पूजा । ६ कष्ट,  
मुश्किली । ७ अनुमति । ८ समृद्धि (पड  
१२२; १२३; १३५) । ९ अनायास (ठा  
५, ?—पत्र २६६) ।

सुअ अक [स्वप्] सोना । सुअइ (हे ४,  
१४६; प्राक ६६; पि ४६७; उव), सुयामि  
(निता १); “अपि मा सुय वीचल्यो”  
(आत्महि ६) । कर्म. सुपइ (हे २, १७६) ।

वह. सुयंत, सुयमाण (सुर ५, २१६;  
सुवा ५०५; महा ३७, १२; पि ४६७) ।  
हेऊ, सोउं (पि ४६७) । क. सोएवा (पत्र)  
(हे ४, ४३८) ।

सुअ सक [श्रु] सुनना । वह. सुअंन  
(वात्वा १५६) ।

सुअ पुं [सुन] पुत्र, लड़का (सुर १, १०;  
प्राप् ८६; कुमा; उव) ।

सुअ पुं [शुअ] ? पति-विशेष. तोता (परह  
१, १—पत्र ८; उत ३४, ७; गुवा ३१) ।  
२ रावण का मन्त्री (मे १२, ६३) । ३  
रावणायोन एक नामंत राजा (पत्रम ८,  
१३३) । ४ एक परिव्राजक (गाथा १,  
५—पत्र १०५) । ५ एक अनाथ देश  
(पत्रम २७, ७) ।

सुअ वि [श्रुत] ? मुना हुआ, आकर्णित  
(हे १, २०६; भग; ठा १—पत्र ६) । २  
न. ज्ञान-विशेष, शब्द-ज्ञान, शास्त्र-ज्ञान (विसे  
७६; ८१; ८५; ८६; ९४; १०४; १०५;  
एदि; अणु) । ३ शब्द, ध्वनि, आवाज ।  
४ क्षयोपशम, श्रुतज्ञान के आधारक कर्मों का  
नाश-विशेष । ५ आत्मा, जीव; ‘तं तेण  
तप्पो तप्पि व सुण्णं सो वा सुअं तेषं’ (विसे  
८१) । ६ आगम, शास्त्र, सिद्धान्त (भग;  
एदि; अणु; से ४, २७; कम्म ४. ११;  
१४; २१; वृह १; जी ८) । ७ अव्ययन,  
स्वाध्याय (सम ५१; से ४, २७) । ८  
श्रवण (प्राक ७०) । °केवलि पुं [°केवलिन]  
बीहह पूर्व-अर्थों का जानकार मुनि (राज) ।  
°कसंध, °संध पुं [°कसंध] ? अंग-अर्थ  
का अव्ययन-समूहात्मक महान् अंग-अण्ड  
(सूत्र २, ७, ४०; विपा १, ?—पत्र ३) ।  
२ बारह अंग-अर्थों का समूह । ३ बारहवां  
अंग-अर्थ, दृष्टिवाद (राज) । °जाण देखो  
°नाण (ठा २, १ टी—पत्र ५१) । °णाणि  
वि [°ज्ञानिन्] शास्त्र-ज्ञान-संपन्न, शास्त्रों  
का जानकार (भग) । °णिसिय न  
[°निश्रित] मति-ज्ञान का एक भेद (एदि) ।  
°तिहि श्री [°तिधि] शुक्ल पंचमी तिथि  
(स्वण २) । °थर पुं [°स्थविर] तृतीय  
और चतुर्थ अंग-अर्थ का जानकार मुनि (ठा  
३, २) । °देवया श्री [°देवता] जैन

शास्त्रों की अधिष्ठात्री देवी (पडि) । °देवी  
श्री [°देवी] बहो (सुवा १; कुमा) । °धम्म  
पुं [°धर्म] ? जैन अंग-अर्थ (ठा २, ?—  
पत्र ५२) । २ शास्त्र-ज्ञान (प्रागम) । ३  
आगमों का अध्ययन, शास्त्रान्यास (एदि) ।  
°थर वि [°थर] शास्त्र (सुवा ३५२;  
परह २, ?—पत्र ६६) । °नाण पुंन  
[°ज्ञान] शास्त्रज्ञान (ठा २, ?—पत्र  
४६; भग) । °णाणि श्रेयो °णाणि (पत्र  
१०) । °णिसिय देखो °णिसिय (ठा  
२, ?—पत्र ४६) । °पंचमी श्री [°पंचमी]  
प्राकृत नाम की शुक्ल पांचमी तिथि (नांवि) ।  
°पुत्र वि [°पुत्र] पड़ने मुना हुआ (उव  
१४२ टी) । °सागर पुं [°सागर] ऐश्वर्य  
क्षेत्र के एक नामी निबंध (सम १५४) ।

सुअ वि [स्मृत] याद किया हुआ (भग) ।

सुअंध पुं [सुअंध] ? अन्धो गन्ध. सुअंध  
(गा १४) । २ वि. सुअंधो (से ८, ६३;  
सुर १, २८) ।

सुअंधि वि [सुअंधि] सुन्दर गन्धवाला (से  
१, ६२; दे ८, ८) । देखो सुअंधि ।

सुअक्रयाय वि [स्वाह्याय] अन्धो तरह  
कहा हुआ (सूत्र २, १, १५; १६; २०;  
२६) ।

सुअच्छ वि [स्वच्छ] निर्मल, दिशुद्ध (नांवि) ।

सुअण पुं [सुअण] चरणन, नत्ता आदमी  
(गा २२४; पात्र; प्राप् ८; ४०; सुर २,  
४६; गडड) ।

सुअण न [स्वपन्] सोना, यवन (सूत्र ३१) ।

सुअणा श्री [दे] अतिमुक्तक, वृद्ध-विशेष  
(दे ८, ३८) ।

सुअणु वि [सुअणु] ? सुन्दर शरीरवाला ।  
२ श्री. नारी, महिला (गा २६६; ३८४;  
५६६; पि ३४६; गडड) ।

सुअण्ण देखो सुअण्ण (प्राक ३०) ।

सुअम वि [सुअम] सुबोध (प्राक ११) ।

सुअर वि [सुअर] जो अनायास से हो नके  
वह संज्ञ (अभि ६६) ।

सुअर पुं [सुअर] सुअर, बराह (विपा १,  
७—पत्र ७५; नाट—मूच्छ २२२) ।

सुअरिअ न [सुचरित] सदाचार, सद्गतं (अभि २५३) ।

सुअलंक्रिय वि [स्वलंकृत] अच्छी तरह विभूषित (राया १, १—पत्र १६) ।

सुआ ली [सुता] पुत्री, लड़की (गा ६०२; ८६३ (कुमा) ।

सुआ (शौ) अक्र [शी] शयन करना, सोना । सुआदि (प्राक् २४) ।

सुआ ली [सूच्] यज्ञ का उपकरण-विशेष, धी आदि डालने की कड़छी या कलछी (उत्त १२, ४३; ४४) ।

सुआइक्ख वि [स्वाख्येय] सुख से—अनायास से कहने योग्य (ठा ५, १—पत्र २६६) ।

सुआउत्त वि [स्वायुक्त] अच्छी तरह हवाल रखनेवाला (उत्त) ।

सुइ पुं [शुचि] १ पवित्रता, निर्मलता; 'जिएवम्मठिया मुणियो य वच्छ दीसंति नुइरहिया' (सुपा १६६) । २ वि. श्वेत, सफेद (कुमा) । ३ पवित्र, निर्मल (श्रीप; कप्प; आ १२; महा; कुमा) । ४ ली. शक्र की एक अग्र-महिषी (इक) ।

सुइ ली [श्रुति] १ श्रवण, आकर्णन, सुनना (उत्त ३, १; वसु; वित्ते १२५) । २ कर्ण, कान (गा ६४१; सुर ११, १७४; सम्मत्त ८४; सुपा ४६; २४७) । ३ वेद-शास्त्र (पाम्र; अच् ४; कुमा) । ४ शास्त्र, सिद्धान्त (संघा ७; प्रासू ४६) ।

सुइ ली [स्मृति] स्मरण (विपा १, २—पत्र ३४) ।

सुइअ देखो सूइअ = सूचिक (दे १, ६६) ।

सुइण देखो सुमिण (सुर ६, ८२; उप ७२८ टी; हे ४, ४३४) ।

सुइदि ली [सुकृति] १ पुरय । २ मङ्गल, कल्याण । ३ सत्-कर्म (प्राप्र; पि २०४) ।

सुइयाणिया ली [दे. सूतिकारिणी] सूतिकर्म करनेवाली ली (सुपा ५७८) ।

सुइर न [सुचिर] अत्यन्त दीर्घकाल, बहुकाल (गा १३७; ४६०; सुपा १; १२७; महा) ।

सुइल देखो सुक्क = शुक्ल (हे २, १०६) ।

सुइच्च वि [श्वस्तन] आगामी कल से संबन्ध रखनेवाला, कल होनेवाला (पिड २४१) ।

सुई ली [दे] वृद्धि, मति (दे ८, ३६) ।

सुई ली [शुकी] शुक्र पत्नी की मादा, मैना (सुपा ३६०) ।

सुउज्जुयार वि [सुञ्जुकार] अतिशय संयम में रहनेवाला, सुसंयमी (सूत्र १, १३, ७) ।

सुउज्जुयार वि [सुञ्जुचार] अतिशय सरल आचरणवाला (सूत्र १, १३, ७) ।

सुउमार } देखो सुकुमाल (स्वप्न ६०;  
सुउमाल } कुमा) ।

सुउरिस पुं [सुपुरुष] सज्जन, मला आदमी (प्राप्र; हे १, ८; कुमा) ।

सुए अ [श्वस्] आगामी कल (स ३६; दे ४१) ।

सुं क न [शुल्क] १ मूल्य (राया १, ८—पत्र १३१; विपा १, ६—पत्र ६३) । २ चुंगी, विक्रेय वस्तु पर लगता राज-कर (घम्म १२ टी; सुपा ४४७) । ३ वर-पक्ष के पास से कन्या पक्षवालों को लेने योग्य धन (विपा १, ९—पत्र ६४) । °ठाण न [स्थान] चुंगी-घर (घम्म १२ टी) । °पालय वि [पालक] चुंगी पर नियुक्त राज-पुत्र्य (सुपा ४४७) । देखो सुक्क = शुल्क ।

सुं कअ } पुं [दे] किशाह, धान्य आदि का  
सुं कल } अग्र भाग (दे ८, ३८) ।

सुं कलि पुं न [दे] तृण-विशेष (परएण १—पत्र ३३) ।

सुं कविय वि [शुक्ति] जिसकी चुंगी दी गई हो वह (सुपा ४४७) ।

सुं काणिअ पुं [दे] नाव का डांड खेनेवाला व्यक्ति, पतवार चलानेवाला (सिरि ३८५) ।

सुं कार पुं [सुत्कार] अव्यक्त शब्द-विशेष (सुर २, ८; गउड) ।

सुं क्रिअ वि [शौक्तिक] शुल्क लेनेवाला, चुंगी पर नियुक्त पुत्र्य (उप पृ १२०) ।

सुं ख देखो सुक्ख = शुक्ल (संक्षि १६) ।

सुं ग देखो सुक्क = शुक्ल (हे २, ११; कुमा) ।

सुं गायण न [शौङ्गायन] गोत्र-विशेष (सुज्ज १०, १६) ।

सुं व सक [दे] सूचना । वक्क. सुं वंत (सिरि ६२२) ।

सुं धिअ वि [दे] घ्रात, सूँघा हुआ (दे ८, ३७) ।

सुं चल न [दे] काला नमक, 'सुं ठिसुं चलाईय' (कुप्र ४१४) ।

सुं ठ पुं न [शुण्ठ] पद-वनस्पति-विशेष (परएण १—पत्र ३३) ।

सुं ठय पुं न [शुण्ठक] भाजन-विशेष, 'मीरासु य सुं ठयसु य कं डमु य पर्यं डयसु य पर्यं ति' (सूत्रनि ७६) ।

सुं ठी ली [शुण्ठी] सूँठ या सोंठ (पभा १५; कुप्र ४१४; पंचा ५, ३०) ।

सुं ड वि [शौण्ड] १ मत्त, मद्यप, दाह पीनेवाला (हे १, १६०; प्राक् १०; संक्षि ६) । २ दब, कुशल (कुमा) । देखो सोंड ।

सुं डा देखो सोंडा (आचा २, १, ३, २; आचम) ।

सुं डिअ पुं [शौण्डिक] कलवार, दाह वेचनेवाला (प्राक् १०; संक्षि ६) ।

सुं डिआ ली [शौण्डिका] मदिरा-भान में आसक्ति (दस ५, २, ३८) ।

सुं डिक देखो सुं डिअ (दे ६, ७५) ।

सुं डिकिणी ली [सौण्डिकी] कलवार की ली (प्रयो १०६) ।

सुं डीर देखो सोंडीर (भवि) ।

सुं द पुं [सुन्द] राजा रावण का एक नागिनेय, खरदूपण का पुत्र (पत्तम ४३; १८) ।

सुं दर वि [सुन्दर] १ मनोहर, चार, शोभन (परह १, ४; सुपा १२८; २६५; कप्प; काप्र ४०८) । २ पुं. एक सेठ का नाम (सुपा ६४३) । ३ तेरहवें जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५१) । ४ न. तप-विशेष, तेला, तीन दिनों का लगातार उपवास (संबोध ५८) । °वाहु पुं [वाहु] सातवें जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५१) ।

सुं दरिअ देखो सुंदर (हे २, १०७) ।

सुं दरिम पुं ली. देखो सुंदर (कुप्र २२१) ।

सुं दरी ली [सुदरी] १ उत्तम ली (प्रासू ५७; वि १८) । २ भगवान् ऋषभदेव की एक पुत्री (ठा ५, २—पत्र ३२६; सम ६०; पत्तम

३, १२०; वि १८)। ३ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, ६)। ४ छन्द-विशेष (पिग)। ५ मनोहरा, शोभना: 'सुंदरी एं देवाणुपिया गोसालस्त मंललिपुत्तस्स धम्म-परणीती' (उवा)।

सुंदर } न [सौन्दर्य] सुन्दरता, शरीर  
सुंदरिम } का मनोहरपन (प्राप्र; हे १, ५७;  
कुमा; सुपा ४; ६२२; धम्म ११ टी)।

सुंव न [शुम्ब] ? तृण-विशेष (ठा ४, ४—  
पत्र २७१; सुख १०, १)। २ तृण-विशेष  
की बनी हुई डोरी—रस्ती (विसे १५४)।

सुंभ पुं [शुम्भ] ? एक गृहस्व जो शुंभा  
नामक इन्द्राणी का पूर्व-जन्म में पिता था  
(गाया २, २—पत्र २५१)। २ वानव-  
विशेष (पि ३६०; ३६७ ए) °वडेंसय न  
[°वितंसक] शुम्भा देवी का एक भवन  
(गाया २, २)। °सरी स्त्री [°श्री] शुम्भा  
देवी की पूर्व-जन्मीय माता (गाया २, २)।

सुंभा स्त्री [शुम्भा] बलि नामक इन्द्र की एक  
पटरानी (गाया २, २—पत्र २५१)।

सुंसुमा स्त्री [सुंसुमा] वन साधवाह की कन्या  
का नाम (गाया १, १८—पत्र २३५)।

सुंसुमार पुं [सुंसुमार, शिशुमार] ? जल-  
चर प्राणी की एक जाति, मूँच, सोंस या सूसर  
(गाया १, ४; पि ११७)। २ द्रह-विशेष (भत्त  
६६)। ३ पर्वत-विशेष। ४ न. एक श्रण्य  
(स ८६)। देखो सुंसुमार।

सुक देखो सुअ = सुक (सुपा २३४)। °पपहा  
स्त्री [°प्रभा] भगवान् मुविदिनाय की दीक्षा-  
शिविका (विचार १२६)।

सुकड पुं [सुकवि] अच्छा कवि (गा ५००;  
६००; महा)।

सुकंठ वि [सुकण्ठ] ? सुन्दर करठवाला।  
२ पुं. एक वणिक्-पुत्र (आ १६)। ३ एक  
चोर-नेतापति (महा)।

सुकच्छ पुं [सुकच्छ] विजय-क्षेत्र-विशेष  
(ठा २, ३—पत्र ८०; इक)। °कूड पुं  
[°कूट] शिखर-विशेष (इक; राज)।

सुकड देखो सुअ (चउ ५८)।

सुकण्ड पुं [सुकण्ण] एक राज-पुत्र (निर  
१, १; पि ५२)।

सुकण्हा स्त्री [सुकण्णा] राजा श्रेणिक की  
एक पत्नी (अंत २५)।

सुकद देखो सुकय (संवि ६)।

सुकम्माण वि [सुकर्मण] अच्छा कर्म करने-  
वाला (हे ३, ५६; पड्)।

सुकय न [सुकृत] ? पुण्य (परह १, २—  
पत्र २८; पाथ)। २ उपकार (से १, ४६)।

३ वि. अच्छी तरह निमित्त (राज)।  
°जाणुअ, °ण्णु, °ण्णुअ वि [°ज्ञ] सुकृत

का जानकार, उपकार की कदर करनेवाला  
(प्राक १८; उप ७६८ टी)।

सुकयत्थ वि [सुकृतार्थ] अत्यन्त कृतकृत्य  
(प्रासू १५५)।

सुकर देखो सुगर (आचा १, ६, १, ८)।

सुकाल पुं [सुकाल] राजा श्रेणिक का एक  
पुत्र (निर १, १)।

सुकाली स्त्री [सुकाली] राजा श्रेणिक की  
एक पत्नी (अंत २५)।

सुकिअ देखो सुकय (हे ४, ३२६; भवि)।

सुकिट्टि वि [सुकट्ट] अच्छी तरह जोता हुआ  
(पउम ३, ४५)।

सुकिट्टि पुं [सुकट्टि] एक देव-विमान (सम  
६)।

सुकिट्ठि वि [सुकट्ठिन्] ? पुण्य-शाली। २  
सत्कर्म-कारी (रंभा)।

सुकिल } देवा सुक = युक्त (हे २, १०६;  
सुकिल } पि १३६)।

सुकुमार } वि [सुकुमार] ? अति कोमल।

सुकुमाल } २ सुन्दर कुमार अथवावाला  
(महा; हे १, १७१; पि १२३; १६०)।

सुकुमालिअ वि [दि] सुवटित, सुन्दर बना  
हुआ (दे ८, ४०)।

सुकुल पुं [सुकुल] उत्तम कुल (भवि)।

सुकुसुम न [सुकुसुम] ? सुन्दर फूल। २  
वि. सुन्दर फूलवाला (हे १, १७७; कुमा)।

सुकुसुमिय वि [सुकुसुमित्त] जिसकी अच्छी  
तरह फूल आया हो वह (सुपा ५६८)।

सुकुसल पुं [सुकुशल] ? ऐश्वर्य-वर्ष के  
एक भावी जिनदेव (सम १५४; पव ७)।  
२ एक जैन मुनि (पउम २२, ३६)।

सुकुसला स्त्री [सुकुशला] एक राज-कन्या  
(उप १०३१ टी)।

सुक वक [शुप्] सुखना। सुकड (विसे  
३०३२; पव ७०), सुकति (दे ८, १८  
टी)।

सुक वि [शुप्क] मूला हुआ (हे २, ५;  
गाया १, ६—पत्र ११४; उवा; पिउ २७६;  
सुर ३, ६५; १०, २२३; धावा १५६)।

सुक न [शुक्त] ? तुंगी, बचने की वस्तु पर  
लगता राज-कर (गाया १, १—पत्र ३७;  
कुमा; आ १४; सम्मत १५६)। २ क्री-धन  
विशेष। ३ वर पक्ष से कन्या-पदावाली की  
लेने योग्य धन। ४ स्त्री की संभोग के लिए  
दिया जाता धन। ५ मूल्य (हे २, ११)।

देखो सुक।

सुक पुं [शुक्त] ? ग्रह-विशेष (ठा २, ३—  
पत्र ७८; सम ३६; वज्रा १००)। २ पुंन.  
एक देव-विमान (सम ३३; देवेन्द्र १४३)।  
३ न. वीर्य, शरीरस्य धानु-विशेष (ठा ३,  
३—पत्र १४४; धर्मसं ६८४; वज्रा १००)।

सुक पुं [शुक्त] ? वर्ष-विशेष, सफेद रंग।  
२ सफेद वर्षामाला, श्वेत (हे २, १०६;  
कुमा; सम २६)। ३ न. शुभ ध्यान-विशेष  
(श्रीप)। ४ वि. जिसका संसार अर्थ पुद्गल-  
परावर्त काल से कम रह गया हो वह (पंचा  
१, २)। °ज्जाण, °भाण न [°ज्जान]

शुभ ध्यान-विशेष (सम ६; सुपा ३७; अंत)।  
°पक्ख पुं [°पक्ष] ? जिसमें चन्द्र की कला  
क्रमशः बढ़ती है वह आधा महीना (सम  
२६; कुमा)। २ हंस पत्नी। ३ काक, कौआ।  
४ वगला, बक पत्नी (हे २, १०६)।

°पक्खिय वि [°पक्खिक] वह आत्मा जिसका  
संसार अर्थ पुद्गल-परावर्त से कम रह गया हो  
(ठा २, २—पत्र ५६)। °लेस देखो °लेस  
(भग)। °लेसा देवा °लेसा (सम ११;  
ठा १—पत्र २८)। °लेस वि [°लेसा]

शुक्ल लेशवाला (परण १७—पत्र ५११)।  
°लेसा स्त्री [°लेसा] आत्मा का अच्यव-  
साय-विशेष, शुभतम आत्म-परिणाम (परह  
२, ४—पत्र १३०)।

सुकड } देखो सुकय (सम १२५; पउम  
सुकय } १५, १००)।

सुकव चक [शोपय] सुखाना। वक्र-  
सुकवेमाण (गाया १, ६—पत्र ११४)।

सुक्ताणय न [दे] जहाज के आगे का ऊँचा काष्ठ; गुजराती में 'सुकान' (सिरि ४२४)।

सुक्ताभ न [शुक्ताभ] १ एक लोकांतिक देव-विमान (पव ३६७)। २ वैताव्य पर्वत की दक्षिण श्रेणि में स्थित एक विद्याघर-नगर (इक)।

सुक्त्रिय देखो सुकय (भवि)।

सुक्त्रिय देखो सुक्तीअ (राज)।

सुक्किल } देखो सुक्क = शुक्ल (भग;  
सुक्किलय } श्रौप; हे २, १०६; पंच ५,  
सुक्किल ३३; अणु १०६); 'मुत्तुं  
सुक्किलवत्थं' (गच्छ २, ४६; कप्प; सम ४१  
धर्मसं ४५४)। बी. 'एगो सुक्किलियाएणं एगो  
सवलाएणं वगो कम्मो' (आक ७)।

सुक्कीअ वि [सुक्कीअ] अच्छी तरह खरीदा हुआ, 'सुक्कीअं वा सुक्किलीअं' (दस ७, ४५)।

सुक्ख देखो सुक्क = शुष्क। वक्क. सुक्खंतं (गा ४१४; वजा १४६)।

सुक्ख देखो सुक्क = शुष्क (हे २, ५; गा २६३; मा ३१; उप ३२० टी)।

सुक्ख न [सौख्य] सुख (कप्प; कुमा; सावं ५१, प्रासू २८; १४५)।

सुक्खव देखो सुक्कय। कर्म. सुक्खवीअंति (पि ३५६; ५४३)।

सुक्खिय वि [स्वाख्यात] अच्छी तरह कहा हुआ, प्रतिज्ञात; 'तन्नो सुइवइयराजंणो जं ते सुक्खियमासि बुद्धिलेण अट्ठलक्खं, तन्निमित्त-मेसो पेसिअो चालीससाहसो हारो ति वोत्तुं' सर्मापिअं च हारकरडियं गअो दासचेडो' (महा)।

सुखम (वे) देखो सण्ह = सूक्ष्म; 'सुखमवरिस्सो' (प्राक १२४)।

सुग देखो सुअ = शुक्र (उप ६७२; स ८६; उर ५, ७; कुप्र ४३८; कुमा)।

सुगइ बी [सुगति] १ अच्छी गति (ठा ३, ३—पत्र १४६)। २ सन्मार्ग, अच्छा मार्ग (सुअनि ११५)। ३ वि. अच्छी गति को प्राप्त (आवम)।

सुगंध देखो सुअंध (कप्प; कुमा; श्रौप; सुर २, ५८)।

सुगंधा बी [सुगन्धा] पश्चिम विदेह का एक विजयक्षेत्र (इक)।

सुगंधि देखो सुअंधि (श्रौप)। 'पुर न [पुर] वैताव्य की उत्तर श्रेणि में स्थित एक विद्या-घर-नगर (इक)।

सुगण वि [सुगण] अच्छी तरह गिननेवाला (पड्)।

सुगम वि [सुगम] १ अल्प परिश्रम से जाया जा सके वैसा, सुख-गम्य (श्रौपमा ७५)। २ सुबोध (चेइय ३६३)।

सुगय वि [सुगत] १ अच्छी गतिवाला (ठा ४, १—पत्र २०२; कुप्र १००)। २ सुख्य। ३ धनी। ४ सुणी (ठा ४, १—पत्र २०२; राज; हे १, १७७)। ५ पुं. बुद्धदेव (पाअ; पव ६४)।

सुगय वि [सौगत] बुद्ध-भक्त, बौद्ध (सम्मत्त १२०)।

सुगर वि [सुकर] सुख-साध्य, अल्प परिश्रम से हो सके ऐसा (आचा १, ६, १, ८)।

सुगरिट्ठ वि [सुगरिअ] अति बढ़ा (श्रु १६)।

सुगिअ वि [सुग्राह्य] सुख से ग्रहण करने योग्य (पउम ३१, ५४)।

सुगिअ पुं [सुग्रीअ] १ चैत्र मास की पूर्णिमा (ठा ५, २—पत्र २१३)। २ फाल्गुन का उत्सव (दे ८, ३६)।

सुगिर वि [सुगिर] अच्छी वाणीवाला (पड्)।

सुगिहिय } वि [सुगृहीत] विख्यात,  
सुगिहीय } विश्रुत (स ६६; १३)।

सुगो देखो सुई = शुकी (कुमा)।

सुगुत्त पुं [सुगुत्त] एक मंत्री का नाम (महा)।

सुगुरु पुं [सुगुरु] उत्तम पुत्र (कुमा)।

सुगा न [दे] १ आत्म-कुशल (दे ८, ५६; सण)। २ वि. निविघ्न, विघ्न-रहित। ३ विसर्जित (दे ८, ५६)।

सुगाइ देखो सुगाइ (सुपा १६१; सं ८१)।

सुगाय देखो सुगाय = सुगत (ठा ४, १—पत्र २०२)।

सुगाह अक [प्र + सू] फैलना। सुगाहइ (धात्वा १५६)।

सुगीव पुं [सुगीव] १ नागकुमार देवों के इन्द्र भूतानन्द के अरव-सैन्य का अधिपति

(ठा ५, १—पत्र ३०२)। २ भारतवर्ष में होनेवाला नववाँ प्रतिवासुदेव राजा (सम १५४)। ३ राक्षस-वंश का एक राजा, एक लङ्का-पति (पउम ५, २६०)। ४ नववें जिनदेव के पिता का नाम (सम १५१)। ५ राजा बालि का छोटा भाई (पउम ६, ६; से १, ४६; १४, ३६)। ६ एक राजा का नाम (सुर ६, २१४)। ७ न. नगर-विशेष (उत्त १६, १)।

सुव (अप) देखो सुह = सुख (हे ४, ३६६)।  
सुघट्ट वि [सुघट्ट] अच्छी तरह धिसा हुआ (राय ८० टी)।

सुवरा बी [सुगृहा] मादा-पक्षी की एक जाति, जो अपना घोंसला खूब सुन्दर बनाती है (आचू १)।

सुवोस पुं [सुवोप] १ एक कुलकर-पुरुष (सम १५०)। २ एक पुरोहित का नाम (उप ७२८ टी)। ३ पुंन. सनत्कुमार देवलोक का एक विमान (सम १२)। ४ लान्तक नामक देवलोक का एक विमान (सम १७)। ५ वि. सुन्दर आवाजवाला (जोव ३, १; भवि)। ६ एक नगर का नाम (विपा २, ८)।

सुवोसा बी [सुवोपा] १ गीतरति नामक गन्धर्व की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४)। २ गीतयशनामक गन्धर्व की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४)। ३ सुधर्व की प्रसिद्ध घंटा (परह २, ५—पत्र १४६; सुपा ४५)। ४ वाद्य-विशेष (राय ४६)।

सुचंद पुं [सुचन्द्र] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न दूसरे जिन-देव (सम १५३)।

सुचरिअ न [सुचरित] १ सदाचरण, सदा-चार (कप्प; गउड)। २ वि. सदाचरण संपन्न (गउड)। ३ अच्छी तरह आचरित (पउम ७५, १८; णाया १, १६—पत्र २०५)।

सुचिण्ण } वि [सुचीण] १ सम्यग् आच-  
सुचिन्न } रित; 'तवसंजमो सुचिण्णोवि'  
(पउम ६, ६५; ६४, ३२; ठा ४, २—पत्र २१०)। २ न. पुण्य (श्रौप; उवा)।

सुचिर न [सुचिर] अत्यन्त चिर काल, सुदीर्घ काल (सुपा २७; महा; प्रासू ३२)।

सुचोइअ वि [सुचोदित] प्रेरित (उत्त १, ४१)।

सुच वि [शोच्य] अकतोस करने योग्य, 'सुचा ते जियजाए जिणववणं जे नरा न चाणंति' (वर्मवि १७)।

सुचा देवी सुग = यु।

सुजापिय न [सुजलिपत] आशीर्वाद (साया १, १—पत्र ३६)।

सुजड पुं [सुजट] एक विद्याधर-नरेश (पद्य १०, २०)।

सुजस पुं [सुयशस्] ? एक जिनदेव का नाम (टा १०३ टी)। २ वि. यशस्वी (श्रा १६)।

सुजसा स्त्री [सुयशस्] ? चौदहवें जिन-देव की माता (सम १५१)। २ एक राज-पत्नी (उप ६८६ टी)।

सुजह वि [सुज्ञान] मुख से जिसका ध्यान हो सके वह (उत्त ८, ६)।

सुजाइ वि [सुजाति] प्रयत्न जातिवाला, जात्य (महा)।

सुजाण वि [सुज्ञ] सयाना, अच्छा जानकार (सिंरि ५६१; प्रासू १३; सुपा ५८८)।

सुजाय वि [सुजात] ? सुन्दर जाति में उत्पन्न, कुलोत्त, सानदानो (उप ७२८ टी)। २ अच्छी तरह उभन्न, सुन्दर रूप से उभन्न (ठा ४, २—पत्र २०८; श्रौप; जीव ३, ४; उवा)। ३ न. सुन्दर जन्म (श्राव)। ४ पुं. एक राज-कुमार (विपा २, ३)। ५ पुं. एक एक देव-विमान (वेन्द्र २७२)।

सुजाया स्त्री [सुजाता] ? कालवाल आदि लोकमालों की पटरानियों के नाम (ठा ४, १—पत्र २०४; इक)। २ राजा श्रेणिक की एक पत्नी (श्रंत २५)।

सुजिद्धा स्त्री [सुज्येष्टा] एक महासती राज-कुमारी, जो चक्रराज की पुत्री थी (पडि)।

सुजुत्ति स्त्री [सुयुक्ति] सुन्दर बुक्ति (सुपा १११)।

सुजेष्टा देवी सुजिष्टा (राज)।

सुजोसिअ वि [सुजुष्ट] अच्छी तरह सेवित (सूत्र १, ३, २, २६)।

सुजोसिअ वि [सुजोषित] बुष्टु क्षिप्त, सम्यग् विनाशित (सूत्र १, ३, २, २६)।

सुज्ज पुं [सूर्य] ? सूरज, रवि। २ ब्राह्म का पद। ३ देव-विशेष (हे २, ६४; प्राप्र)।

४ पुं. एक देव-विमान (सम १५)। ५ अंत पुं [कान्त] एक देव-विमान (सम १५)।

०ऊम्य पुं [ध्वज] देव-विमान-विशेष (सम १५)। ०पभ पुं [प्रभ] एक देव-विमान (सम १५)। ०लेस पुं [लेस्य] एक देव-विमान (सम १५)। ०वग्ग पुं [वर्ण] देव-विमान-विशेष (सम १५)। ०सिग पुं [शृङ्ग] एक देव-विमान (सम १५)। ०सिट्ट पुं [सृष्ट] एक देव-विमान का नाम (सम १५)। ०सिरी स्त्री [श्री] एक ब्राह्मण-कन्या (महानि २)। ०निय पुं [शिव] एक ब्राह्मण का नाम (महानि २)। ०हास पुं [हास] तलवार की एक उत्तम जाति (पद्य ४३, १६)। ०भ न [भ] वैताय्य की उत्तम-श्रेणि में स्थित एक विद्याधर-नगर (इक)। ०वत्त पुं [वत्त] एक देव-विमान (सम १५)। देवी ०सूर, सुरिअ = सूर, सूर्य।

सुज्जाण वि [सुज्ञान] सुजान, सयाना, सुज्ञ (पड; विन)।

सुज्जुत्तरवडिसग पुं [सूर्योत्तरावत्तसक] एक देव-विमान (सम १५)।

सुज्ज्ज अक [शुष्] शुद्ध होना। सुज्ज्ज (महा)। संक्र. सुज्जिऊण (सम्यक्त्वो ८)।

सुज्ज्जं वि [इदयमान] सूक्ष्मा, दीर्घ पड़ता, मालूम होता; श्रवणं जं अनुज्जंत्तं। सुंजंत-एण रत्ति' (पद्य १०३, २५)।

सुज्ज्जया स्त्री [सोधना] शुद्धि (उप ८०४)।

सुज्ज्जय न [दि] ? रोष्य, चाडी। २ पुं. रजक, घोड़ी (दे ८, ५६)।

सुज्ज्जय पुं [दि] रजक, घोड़ी (दे ८, ३६)।

सुज्ज्जण न [शोधन] शुद्धि, प्रसालन (उप ६८५)।

सुज्ज्जइ वि [सुव्यायिन्] शुभ ध्यान करने-वाला (संबोध ५२)।

सुज्ज्जइय वि [सुध्यात] अच्छी तरह चिन्तित (राज)।

सुद्विअ वि [सुस्थित] ? सम्यक् स्थित (कप्प)। २ पुं. लवण समुद्र का श्रेणिष्ठावक

देव (साया १, १६—पत्र २१७)। ३ श्रावणमुद्रति आचार्य का शिष्य एक जैन महर्षि (कप्प)।

सुद्वट्टु, अ [सुद्वट्टु] ? अच्छा, शोभन, सुन्दर सुद्वट्टु (प्राचा; भाग; उज्ज २३; सुर २, १७८)। २ प्रतिशय, श्रवण (सुर ४, २४ प्रासू १३७)।

सुद्विअ देवी सुद्विअ (प्राप्र)।

सुद्व सक [सृष्ट] याद करना। सुद्व (प्राक ६३)।

सुद्विअ वि [दि] ? आन्त, यका दुष्ठा (दे ८, ३६; गडड; सुपा १७६; ५३; सुर १०, २१८)। २ संकुचित श्रंगवाला (महा)।

सुग सक [श्रु] मुनना। सुगइ, सुगेइ (हे ४, ५८; २४१; महा)। सुगउ, सुगेउ, सुगाउ (हे ३, १५८)। भवि. सुगिस्सइ, सुगिस्सामो; सोच्छिइ, सोच्छिहिइ; सोच्छि, सोच्छिस्सं, सोच्छिमि, सोच्छिहिमि, सोच्छिस्सामि, सोच्छिहामि (पि ५३१; श्रौप; हे ३, १७२)। कर्म. सुगिइइ, सुव्वइ, सुव्वए, सुम्मइ, सुणेइइ (हे ४, २४२; कुमा; महा; पि ५३६)। वक्र. सुणंत, सुणित, सुगमाण, सुणेमाण (हेका १०५; सुर ११, ३७; पि ५६१; विपा १, १; सुर ३, ७६)। कवक. सुम्मंत, सुव्वंत, सुव्वमाण (सुर ११, १६६; ३, ११; से २, १०; ६, ४६)। संक्र. सुणिअ, सुणिऊण, सुणित्ता, सुणेत्ता, सोऊण, सोऊआण, सोऊआणं, सोऊं, सोइ, सोइं, सुवा (श्रमि ११६; पड; हे ४, २४१; पि ५८२; हे ४, २३७; २, १४६; कुमा; हे २, १५; पि ११४; ३४६; ५८७)। हेक. सोऊं (कुमा)। क. सुगेयव्व; सोअव्व (भाग; परइ १, १—पत्र ५; से २, १०; गडड; अजि ३८)।

सुगइ देवी सुगय।

सुणंदा पुं [सुनन्द] ? एक राजपि (धम्म)।

२ भगवान् वानुपुज्य को प्रथम निजा-दाता गृह्य (सम १५१)। ३ पुं. एक देव-विमान (सम २६)। देवी सुनंद।

सुणंदा स्त्री [सुनन्दा] ? भगवान् पार्श्वनाथ की सुव्व आविका (कप्प)। २ तृतीय चक्रवर्ती

की पटरानी—तीक्ष्णरा वीरल (सम १५२; महा) । ३ भूतानन्द आदि इन्द्रों के लोकपालों की अग्रमहिषियों के नाम (ठा ४, १—पत्र २०४; इक) ।

सुणकखत्त पुं [सुनक्षत्र] १ एक जैन मुनि (अनु २) । २ भगवान् महावीर का शिष्य एक मूनि (भाग १५—पत्र ६७८) ।

सुणकखत्ता वी [सुनक्षत्रा] पक्ष की दूसरी रात (सुज १, १४) ।

सुणग देखो सुणय (आचा: पि २०६) ।

सुणग न [श्रवण] सुनना (स ५३) ।

सुणय } पुं वी [शुनक] १ कुक्कुर, कुत्ता (हे सुणह } १, ५२; गा ५५०; ६८८; ६९०; णाया १, १—पत्र ६५; गा १३८; १७५; सुर २, १०३; २, २०४; आ १६; कुप्र १५३; रंभा) । वी. सुणई, सुणिआ (कुमा: गा ६८२) । २ पुं. छन्द-विशेष (पिग) ।

सुणहिहया वी [शुनकी] कुत्तो, मादा-कुक्कुर (वज्जा ८६) ।

सुणावण न [श्रावण] सुनाना (विसे २४८५) ।

सुणाविअ वि [श्रावित] सुनाया हुआ (सुपा ६०२) ।

सुणासीर पुं [सुनासीर] इन्द्र, देव-राज (पात्र; हन्मीर १२) ।

सुणाह देखो सुनाभ (राज) ।

सुगिअ देखो सुग ।

सुगिअ वि [श्रुत] सुना हुआ (कुमा: खण ४४) ।

सुगिअ पुं [शौनिक] कसाई (सिरि १०७७) ।

सुगिउण देखो सुनिउण (राज) ।

सुगिप्पकंप देखो सुनिप्पकंप (राज) ।

सुगिन्मिय वि [सुनिर्मित] चार रूप से बना हुआ (कप्प) ।

सुगिञ्चुय वि [सुनिर्धृत] अत्यन्त स्वल्प (णाया १, १—पत्र ३२) ।

सुगिसंत वि [सुनिशान्त] अच्छी तरह सुना हुआ, 'इहमेणेति आयारणोपरे णो सुणिसंते भवति' (आचा १, ८, १, २; २, २, २; १०; १३; १५) ।

सुणसुणाय सक [सुनसुनाय] 'सुन' 'सुन' आवाज करना । बह. सुणसुणायंत (महा) ।

सुण्ण न [शून्य] १ निर्जन स्थान (गउड ५२४) । २ वि. रिक्त, रीता, खाली (स्वप्न ३१ गउड) । ३ निष्फल, व्यर्थ; निष्प्रयोजन (गउड ८४२; ९७२) । ४ न. तप-विशेष, एकाग्र-व्रत (संघोष ५७) । देखो सुन्न ।

सुण्णआर देखो सुण्णार (दे ३, ५४) ।

सुण्णइअ } वि [शून्यत] शून्य किया  
सुण्णविअ } हुआ (ते ११, ४०; गउड: गा २६, १६६; ६०२) ।

सुण्णार पुं [सुवर्णकार] सुनार, सोती (दे ५, ३२) ।

सुण्ह देखो सण्ह = सूक्ष्म (हे १, ११८; कुमा) ।

सुण्हसिअ वि [दे] स्वपन-शील, सोने की आदतवाला (दे ८, ३६; पड) ।

सुण्हवा वी [सारत्ता] गौ का गल-कम्बल (हे १, ७५; कुमा) । °ल पुं [°ल] वृषभ, बैल (कुमा) । °लचिंवि पुं [°लचिंह] १ भगवान् ऋषभदेव । २ महादेव (कुमा) ।

सुण्हवा वी [स्नुपा] पुत्र-वधू (णाया १, ७—पत्र ११७; सुर ४, २८) ।

सुतणु वी [सुतनु] नारी, वी (सुर २, ८६) ।

सुतरं अ [सुतराम्] निश्चित अर्थ के अतिशय का सूत्रक अव्यय (विसे ८२१) ।

सुतवसिय न [सुतपसित] सुन्दर तप, तपश्चर्या का सुन्दर अनुष्ठान (राज) ।

सुतवस्सि वि [सुतपस्सिन्] अच्छा तपस्वी (सम ५१) ।

सुतार वि [सुतार] १ अत्यन्त निर्मल । अति-शय ऊँचा । २ अच्छा तैरनेवाला । अत्युच्च आवाजवाला (हे १, १७७) ।

सुतारया } वी [सुतारा] १ भगवान् सुविधि-  
सुतारा } नायकी की शासन-देवी (संति ६) ।  
२ सुग्रीव की पत्नी (पउम १०, ६) । ३  
आभूषण-विशेष (कुमा) ।

सुतितिकख वि [सुतितिक्ष] सुख से सहन करने योग्य (ठा ५, १—पत्र २६६) ।

सुतोसअ वि [सुतोप्य] सुख से तृप्त करने योग्य (दस ५, २, ३४) ।

सुत्त सक [सूत्रय] बनाना । सुत्तइ (सुपा २३५) ।

सुत्त देखो सुअ = श्रुत; 'पच्चक्खमोहिमण-केवलं च परोक्ख मइसुत्तं' (जीवस १४१) ।

सुत्त देखो सोत्त = क्षोतस् (भवि) ।

सुत्त देखो सोत्त = श्रोत्र (रंभा; भवि) ।

सुत्त वि [सुत्त] सोया, शयित (ठा ५, २—पत्र ३१६, स्वप्न १०४; प्रासू ६८; आ २५) ।

सुत्त वि [सूत्त] १ सुचार रूप से कहा हुआ । २ न. सुभाषित, सुन्दर वचन; 'सुकइव्व सुत्त-उत्ती' (सुपा ३३) ।

सुत्त न [सूत्र] सूता, बागा, वक्र-तन्तु (विपा १, ८—पत्र ८५; सुपा २८) । २ नाटक का प्रस्ताव (मोह ४८; सुपा १) । ३ शास्त्र-विशेष (भाग; ठा ४, ४—पत्र २८३; जी ३६) । °आर पुं [°कार] ग्रंथकार (कप्प) । °कंठ पुं [°कण्ठ] ब्राह्मण, विप्र (पउम ४, ६५) । °कड न [°कृत] द्वितीय जैन आगम-ग्रंथ (सुग्रनि २) । °न न [°क] यज्ञोपवीत (श्रौप) । °धार पुं [°धार] देखो °हार (सुपा १; मोह ४८) । °फासियणिउज्जुत्ति वी [°स्पर्शिकनिर्युक्ति] सूत्र की व्याख्या (अणु) । °रुइ वी [°रुचि] शास्त्र-बद्धा (श्रौप) । °हार पुं [°धार] १ प्रवान नट, नाटक का मुख्य पात्र (प्रासू १६३) । २ सुतार, बढई (कम्म १, ४८) ।

सुत्ति वी [शुक्ति] तोप, घोंपा (हे २, १३८; कुमा) । °मई वी [°मती] चेदि देश की प्राचीन राजधानी (णाया १, १६—पत्र २०८) ।

सुत्ति वी [सूक्ति] सुन्दर वचन, सुभाषित । °वत्तिया वी [°प्रत्यया] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प—पृ ७६ टि; राज) ।

सुत्तिय देखो सोत्तिय = सौत्रिक (वव ६) ।

सुत्तिय वि [सूत्रित] सूत्र-निबद्ध (राज) ।

सुत्थ वि [सुत्थ] १ स्वल्प, तन्दुरुस्त । २ सुखी (संति १२; गा ४७८; महा; चेइय २६६; उप १०३१ टी) ।

सुत्थ न [सौत्थ्य] १ तन्दुरुस्तता, स्वल्पता । २ सुखिपन (संति १२; कुप्र १७६; सुपा १८; १५८; स १३५; उप ६०२; वर्मवि २२) ।

सुखिय देखो सुद्धिअ (सुपा ६३२) ।

सुखिर वि [सुखिर] अतिशय खिर, प्रति-  
निश्चल (प्राह १६; सुपा ३४८; कुमा) ।

सुखेव वि [सुखेव] अत्यल्प (पठम ८,  
१५२) ।

सुदती को [सुदती] सुन्दर दाँतवाली (उप  
७६८ टी) ।

सुदसण पुं [सुदसण] १ भगवान् अरनाय  
के पिता का नाम (सम १५१) । २ तीसरे  
वानुदेव तथा बलदेव के धर्म-गुरु (सम १५३) ।  
३ भारतवर्ष में होनेवाला पाचवाँ बलदेव  
(सम १५४) । ४ घररोन्द के हस्ति-सैन्य का  
अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२) । ५ एक  
अन्तर्दृष्ट मुनि (अंत १८) । ६ मेरु पर्वत  
(सुप्र १, ६, ६; कुञ्ज ५) । ७ एक विख्यात  
श्रेष्ठी (पडि; वि १६) । ८ देव-विशेष (ठा  
२, ३—पत्र ७६) । ९ विष्णु का चक्र  
(सुपा ३२०) । १० भगवान् अरनाय का  
पूर्वजन्मीय नाम । ११ भगवान् पार्थिनाय का  
पूर्वजन्मीय नाम (सम १५१) । १२ पुंन.  
एक देव-विमान (द्वेन्द्र १३६) । १३ वि.  
जिसका दर्शन सुन्दर हो वह (वि १६) ।  
१४ न. पश्चिम दक्क पर्वत का एक शिखर  
(ठा ८—पत्र ४३६) ।

सुदसणा को [सुदसणा] १ जम्बू नामक  
एक वृक्ष, जिससे यह द्वीप जंबूद्वीप कहलाता  
है (सम १३; पाहू २, ४—पत्र १३०) । २  
भगवान् महावीर की ज्येष्ठ बहिन का नाम  
(आचा २, १५, ३; कण) । ३ वरुण आदि  
इन्द्रों के कालवाल आदि लोकपालों की एक-  
एक अप्रमहिषी (ठा ४, १—पत्र २०४) । ४  
काल तथा महाकाल-नामक पिशाचिन्द्रों की  
अग्रमहिषियों के नाम (ठा ४, १—पत्र  
२०४) । ५ भगवान् ऋषभदेव की दोहा-  
शिविका (विचार १२६) । ६ चुतुय बलदेव  
की माता (सम १५२) ।

सुदक्खिअ वि [सुदक्खिअ] दाक्षिण्यवाला  
(अन्म १५; सं ३१) ।

सुदच्छ वि [सुदच्छ] अति चतुर (सुपा  
५१७) ।

सुदरिसण देखो सुदसण (हे २, १०५;  
पठम २०, १७६; १६०; पत्र १६४; इक) ।

सुदाम पुं [सुदाम] अतीत उत्सापिणी-काल  
में उत्पन्न भारतवर्ष का दूसरा कुलकर पुरुष  
(सम १५०) ।

सुदारु न [सुदारु] सुन्दर काष्ठ (गउउ) ।

सुदारुण पुं [दे] चंडाल (दि ८, ३६) ।

सुदिट्ट वि [सुदिट्ट] नम्यग् विलोकित (गा  
२२५) ।

सुदिप्प अक [सु+दीप्] अतिशय  
चमकना । कक. सुदिप्पंत (सुपा ३५१) ।

सुदीह १ वि [सुदीह] अत्यन्त लम्बा (सुर  
सुदीह २, १२५; ३, १६८) । °कालीय  
वि [°कालिक] नृदास-काल-सम्बन्धी (सुर  
१५, २२०) । °दंशि वि [°दंशिन्] ।  
परिणाम का विचार कर कार्य करनेवाला  
(सं ३२) ।

सुदुकर वि [सुदुकर] जो अत्यन्त दुःख से  
किया जा सके वह, अति मुश्किल (उप पु  
१६०) ।

सुदुक्खत्त वि [सुदुःखत्त] अति दुःख से  
पीड़ित (सुर ७, ११) ।

सुदुक्खिअ वि [सुदुःखित] अत्यन्त दुःखित  
(सुपा ३०४) ।

सुदुगा वि [सुदुगा] जहाँ दुःख से गमन  
किया जा सके वह (पठम ३०, ४६) ।

सुदुच्चय वि [सुदुत्तयज] मुश्किल से जिसका  
व्याग हो सके वह, 'सहावो वि सुदुच्चयो'  
(आ १२) ।

सुदुत्तार वि [सुदुत्तार] कठिनाता से जिसको  
पार किया जा सके वह (औप; पि ३०७) ।

सुदुद्धर वि [सुदुद्धर] अति दुःख से जो  
धारण किया जा सके वह (आ ४६; प्रासू  
४८) ।

सुदुत्तियार वि [सुदुत्तियार] अति कठिनाई  
से जिसका निवारण किया जा सके वह  
(सुपा ६४) ।

सुदुप्पिच्छ वि [सुदुदंश] अतिशय मुश्किल  
से देखने योग्य (सुर १२, १६६) ।

सुदुब्भेअ वि [सुदुर्भेद] अति दुःख से  
जिसका भेदन हो सके वह (उप २५३ टी) ।

सुदुम्मणिआ को [दे] स्ववती को (दि  
८, ४०) ।

सुदुद्ध वि [सुदुद्ध] अत्यन्त दुर्जन (राज) ।

सुदुसह वि [सुदुसह] अत्यन्त दुःख से  
सहन करने योग्य (सुर ६, १५८) ।

सुदेव पुं [सुदेव] उत्तम देव (सुपा २५६) ।

सुद पुं [शुद्र] मनुष्य की अग्रम जाति, अनुवं  
यण (विपा १, ५—पत्र ६१; पठम ३,  
११७; श्रु १३) ।

सुदय पुं [शुद्रक] एक राजा का नाम (मोह  
१०५; १०६) ।

सुदिणी (अप) को [शुद्रा] शुद्धजातीय को  
(निग) ।

सुद्र पुं [दे] गोपाल, ग्याला (दि ८, ३३) ।

सुद्र वि [शुद्र] १ शुक्ल, उज्वल; 'यद्दसाह-  
नुद्धपंचमिरतोए सोहणं संगं' (सुर ४,  
१०१; कुप्र ७०; पंचा ६, ३५) । २ पवित्र ।  
३ निर्दोष । ४ केवल, किन्तो से अनिश्चित । ५  
न. सैवा नून-नमक । ६ मरिच, मिर्चा (हे १,  
२६०) । ७ लगातार १८ दिनों के उकास  
(संबोध ५८) । ८ पुं. द्वाद-विशेष (निग) ।

°गंधारा को [°गन्धारा] गन्धार-ग्राम की  
एक मूर्च्छना (ठा ७—पत्र ३६३) । °दंत  
पुं [°दन्त] १ भारतवर्ष में होनेवाले चौथे  
जिनदेव (सम १५४) । २ एक अनुत्तर-नामी  
जैन मुनि (अनु २) । ३ एक अन्तर्दोष । ४  
उपमें रहनेवाली एक मनुष्य-जाति (इक) ।  
°पक्ख पुं [°पक्ख] शुक्ल पक्ष (पठम ६,  
२७) । °प्प पुं [°प्प] पवित्र आत्मा  
(कण) । °प्पवेश वि [°प्पवेश] पवित्र  
और प्रवेश के लिए उचित (भंग) । °प्पवेश  
वि [°प्पवेश] पवित्र तथा विशेषित  
(भंग) । °वाय पुं [°वाय] वायु-विशेष,  
मन्द पवन (जी ७) । °विचड न [°विचड]  
उष्ण जल (कण) । °सज्जा को [°सज्जा]  
पड़न ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७—पत्र  
३६३) ।

सुद्धंत पुं [सुद्धान्त] अन्तःपुर (उप ७६८  
टी; कुप्र ५४; कुम्मा २६; कत) ।

सुद्धवाल वि [दे] शुद्ध-पूत, शुद्ध और पवित्र  
(दि ८, ३८) ।

सुद्धि को [शुद्धि] १ शुद्धता, निर्दोषता,  
निर्मलता (सम्मत्त २३०; कुमा) । २ पता,

खवर, खोई हुई चीज की प्राप्ति; 'वद्धाविज्जह पियाइ सुद्धोए' (सुपा ५१७; कुप्र २०२; सम्मत्त १७२; कुम्मा ६)।

सुद्धेसणिअ वि [शुद्धपणिक] निर्दोष आहार की खोज करनेवाला (परह २, १—पत्र १००)।

सुद्धोअण पुं [शुद्धोदन] बुद्धदेव के पिता का नाम। °तणय पुं [°तनय] बुद्ध देव (सम्म १४५)। देखो सुद्धोदण।

सुद्धोअणि पुं [शौद्धोदनि] बुद्धदेव (पात्र)।

सुद्धोदण देखो सुद्धोअण। °पुत्त पुं [°पुत्र] बुद्ध देव (कुप्र ४४०)।

सुधम्म पुं [सुधर्मन्] १ भगवान् महावीर का पट्टवर शिष्य (कुमा)। २ एक जैन मुनि (विपा २, ४)। ३ तीसरे बलदेव के गुरु—एक जैन मुनि (पउम २०, २०५)। ४ एक जैन मुनि, जो सातवें बलदेव के पूर्व-जन्म में गुरु थे (पउम २०, १६३)। ५ एक जैनाचार्य; 'वह अज्जमंगुसूरि अज्जसुधम्मं च धम्मरथं' (सार्ध २२)। देखो सुधम्म।

सुधा देखो लुहा = सुधा (कुमा)।

सुनंद पुं [सुनन्द] १ भारतवर्ष के भावी दसवें जिनदेव के पूर्वभव का नाम (सम १५४)। २ एक जैन मुनि (पउम २०, २०)। देखो सुणंद।

सुनकखत्त देखो सुणकखत्त (भग १५—पत्र ६७८; ६८७)।

सुनचिरी ली [सुनतिनी] अच्छी तरह नृत्य करनेवाली ली (सुपा २८६)।

सुनयण पुं [सुनयन] १ राजा रावण के अधीनस्थ एक विद्यावर सामन्त राजा (पउम ८, १३३)। २ वि. सुन्दर लोचनवाला (आवम)।

सुनाभ पुं [सुनाभ] अमरकंका नगरी के राजा पद्मनाभ का पुत्र (राया १, १६—पत्र २१४)।

सुनिउण वि [सुनिपुण] १ अत्यन्त सूक्ष्म (सम ११४)। २ अति चतुर (सुर ४, १३६)।

सुनिउण वि [सुनिगुण] अतिशय निश्चित गुणवाला (सम ११४)।

सुनिगाल वि [सुनिर्गल] चिर-स्वायी (विसे ७६६)।

सुनिच्छय वि [सुनिश्चय] दृढ़ निर्णयवाला (सुपा ४६८)।

सुनिप्पकंप वि [सुनिप्पकम्प] अत्यन्त निश्चल (सुपा ६५३)।

सुनिम्मल वि [सुनिर्मल] अतिशय निर्मल (पउम २६, ६२)।

सुनिरुविय वि [सुनिरूपित] अच्छी तरह तलासा हुआ (सुपा ५२३)।

सुनिविन्न वि [सुनिर्विण्ण] अतिशय खिन्न (सुर १४, ५८; उव)।

सुनिव्वुड देखो सुणिव्वुय (द्र ४७)।

सुनिसाय वि [सुनिशात] अत्यन्त तीक्ष्ण (सुपा ५७०)।

सुनिसिअ वि [सुनिशित] ऊपर देखो (दस १०, २)।

सुनिसंसं वि [सुनिःशङ्क] बिलकुल शङ्का-रहित (सुपा १८८)।

सुनीविआ ली [सुनीविका] सुन्दर नीवी—बल-ग्रन्थिवाली ली (कुमा)।

सुनेत्ता ली [सुनेत्रा] पाँचवें वासुदेव की पटरानी (पउम २०, १८६)।

सुन्न न [शून्य] १ विन्दी (सुर १६, १४६)। २—देखो सुण्ण (प्रासू १०; महा; भग; आचा; सं ३६; रंभा)। °पत्तिया ली [°प्रत्ययिका, °पत्रिका] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प)।

सुन्नयार देखो सुण्णआर (सुपा ५६४; वमंवि १२)।

सुन्नार देखो सुण्णार (सुपा ५६२)।

सुन्हा देखो सुण्हा (वा ३७; भवि)।

सुप सक [सृज्] मार्जन करना, शोधन करना। सुपइ (प्राप्र)।

सुपइह वि [सुप्रतिष्ठ] १ न्याय-मार्ग में स्थित। २ प्रतिज्ञा-शूर (कुमा १, २८)। ३ अतिशय प्रसिद्ध। ४ जिसकी स्थापना विवि-पूर्वक की गई हो वह (कुमा २, ४०)। ५ पुं. भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर मुक्ति

पानेवाला एक गृहस्थ (अंत १८)। ६ अंग-विद्या का जानकार पाँचवाँ छ पुत्र (विचार ४७३)। ७ भगवान् सुपाशवनाय के पिता का

नाम (सुपा ३६)। ८ मात्रपद मास का लोकोत्तर नाम (सुज्ज १०, १६)। ९ पात्र-विशेष (राय)। १० न. एक नगर का नाम (विपा १, ६—पत्र ८८)। °भ पुंन [°भ] एक देव-विमान (सम १४; पव २६७)।

सुपइट्टिय वि [सुप्रतिष्ठित] अच्छी तरह प्रतिष्ठा-प्राप्त (भग; राय)।

सुपक वि [सुपक] अच्छी तरह पका हुआ (प्रासू १०२; नाट—मृच्छ १५७)।

सुपडाय वि [सुपताक] सुन्दर ध्वजावाला (कुमा)।

सुपडिच्चुद्ध वि [सुप्रतिवुद्ध] १ सुन्दर रीति से प्रतिबोध को प्राप्त (आचा १, ५, २, ३)। २ पुं. एक जैन महर्षि (कप्प)।

सुपडिवत्त वि [सुपरिवृत्त] जो अच्छी तरह हुआ हो वह (पउम ६४, ४५)।

सुपणिहिय वि [सुप्रणिहित] सुन्दर प्रणि-धानवाला (परह २, ३—पत्र १२३)।

सुपण्ण देखो सुप्पन्न (राज)।

सुपण्ण } पुं [सुवर्ण] गरुड पक्षी (नाट; कुप्र सुपन्न } ६३)।

सुपन्नत्त वि [सुप्रज्ञत्त] १ सुन्दर रूप से कथित (आचा १, ८, १, ३)। २ सम्यग्-आसेवित (दस ४, १)।

सुपभ देखो सुप्पभ (राज)।

सुपन्ह पुं [सुपश्मन्] १ एक विजय-श्रेत्र (ठा २, ३—पत्र ८०)। २ पुंन. एक देव-विमान (सम १५)।

सुपरिकम्मिय वि [सुपरिकर्मित] सुन्दर संस्कारवाला (राया १, ७—पत्र ११६)।

सुपरिक्खिय } वि [सुपरीक्षित] अच्छी सुपरिच्छिय } तरह जिसकी परीक्षा की गई हो वह (उव; प्रासू १५)।

सुपरिणिट्टिय } वि [सुपरिनिष्ठित] अच्छी सुपरिनिट्टिअ } तरह निपुण (राज; भग)।

सुपरिप्फुड वि [सुपरिस्फुट] सुस्पष्ट (पउम ४५, २६)।

सुपरिसंत वि [सुपरिश्रान्त] अतिशय थका हुआ (पउम १०२, ४५)।

सुपरुन्न वि [सुप्ररुद्धित] जिसने जोर से रोने का आरम्भ किया हो वह (राया १, १८—पत्र २४०)।



सुपचित्त वि [सुपचित्त] अत्यन्त विशुद्ध (सुपा ३५४)।

सुपचित्तिय [सुपचित्तित] अत्यन्त पवित्र किया हुआ (सुपा ३)।

सुपञ्च पुं [सुपञ्च] १ देव । २ न. सुन्दर पर्व (कुप्र ४२)।

सुपसाइअ वि [सुप्रसादित] अच्छी तरह प्रसन्न किया हुआ (रंभा)।

सुपसिद्ध वि [सुप्रसिद्ध] अति विख्यात (पिंग)।

सुपस्स वि [सुदर्श] सुख से देखने योग्य (ठा ४, ३—पत्र २५३; ५, १—पत्र २६६)।

सुपद्द पुं [सुपथ] शुभ मार्ग (स्वः सुपा ३७७)।

सुपहाय न [सुप्रभात] माङ्गलिक प्रातःकाल (हे २, २०४)।

सुपाचय वि [सुपापक] अतिशय पापी (उत्त १२, १४)।

सुपास पुं [सुपार्थ] १ भारतवर्ष में उत्पन्न सातवें जिन भगवान् (सम ४३; कप्यः सुपा २)। २ भगवान् महावीर के पिता का भाई (ठा ६—पत्र ४५५; विचार ४७८)। ३ एक कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०)। ४ भारतवर्ष के भावी तीसरे जिनदेव (सम १५३)। ५ ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३)। ६ ऐरवत क्षेत्र में आगामि उत्सर्पिणी-काल में होनेवाले अठारहवें जिनदेव (सम १५४; पत्र ७)। ७ भारतवर्ष के भावी दूसरे जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५४)।

सुपासा स्त्री [सुपार्था] एक जैन साध्वी (ठा ६—पत्र ४५७)।

सुपीअ पुं [सुपीत] अहोरात्र का पाँचवाँ मुहूर्त (सम ५१)।

सुपुंख पुंन [सुपुंख] एक देव-विमान (सम २२)।

सुपुंड पुंन [सुपुण्ड] एक देव-विमान (सम २२)।

सुपुप्फ पुंन [सुपुप्फ] एक देव-विमान (सम ३८)।

सुपुरिस पुं [सुपुरुष] सज्जन, साधु पुरुष (हे २, १८४; गडड; प्रासू ३)।

सुपेसल वि [सुपेसल] अति मनोहर (उत्त १२, १३)।

सुप्प अक [स्वप्] सोना । सुप्पइ (हे २, १७६)।

सुप्प पुंन [सुप्प] सूफ, खाज, सिरली का बना एक पात्र जिससे अन्न पछोरा जाता है (उवाः परह १, १—पत्र ८)। °णह वि [°नत्त] सूफ के जैस नखवाला (राया १, ८—पत्र १३३)। °णहा, °णही स्त्री [°नत्ता] रावण की वहिन का नाम (प्राक ४२)।

सुप्पइट्ट देवो सुपइट्ट (राज)।

सुप्पट्टिय देवो सुपइट्टिय (राज)।

सुप्पइण्णा } स्त्री [सुप्रतिज्ञा] दक्षिण रुचक  
सुप्पइत्ता } पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (राज; इक)।

सुप्पइत्तिय न. शीतहारक वक्र-विशेष (भव० वृ० पत्र ३६५; खो० ४०, ४६)।

सुप्पंजल वि [सुप्राञ्जल] अत्यन्त ऋजु—सीधा (कप्प)।

सुप्पडिआणंद वि [सुप्रत्यानन्द] उपहृत पुरुष के किये हुए उपकार को माननेवाला (ठा ४, ३—पत्र २४८)।

सुप्पडिआर न [सुप्रतिकार] उपकार का बदला, प्रत्युपकार (ठा ३, १—पत्र ११७)।

सुप्पडिवुद्ध देवो सुपडिवुद्ध (राज)।

सुप्पडिलग्ग वि [सुप्रतिलग्ग] अच्छी तरह लगा हुआ, अवलम्बित (सुपा ५६१)।

सुप्पणिहाण न [सुप्रणिधान] शुभ व्यान (ठा ३, १—पत्र १२१)।

सुप्पणिहिय देवो सुपणिहिय (परह २, १—पत्र १०१)।

सुप्पन्न वि [सुप्रन्न] सुन्दर बुद्धिवाला (सूत्र १, ६, ३३)।

सुप्पवुद्ध पुंन [सुप्रवुद्ध] एक त्रैवेक-विमान (दिवेन्द्र १३६; पत्र १६४)।

सुप्पवुद्धा स्त्री [सुप्रवुद्धा] दक्षिण रुचकपर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६; इक)।

सुप्पभ पुं [सुप्रभ] वर्तमान अवसर्पिणी-काल में उत्पन्न चतुर्थ बलदेव (सम ७१)। २ आगामी उत्सर्पिणी में होनेवाला चौथा बल-

देव (सम १५४)। ३ भारतवर्ष का भावी तीसरा कुलकर पुरुष (सम १५३)। ४ हरिकान्त तथा हरिसह नामक इन्द्रों के एक-एक लोकपाल का नाम (ठा ४, १—पत्र १६७; इक)। ५ पुंन. एक देव-विमान (दिवेन्द्र १४१)। °कंत पुं [°कान्त] हरिकान्त तथा हरिसह नामक इन्द्रों के एक-एक लोकपाल का नाम (ठा ४, १—पत्र १६७)।

सुप्पभा स्त्री [सुप्रभा] १ तीसरे बलदेव की माता (सम १५२)। २ धरत्य ग्रादि दक्षिण-श्रेणि के कई इन्द्रों के लोकपालों की एक-एक अग्रनहियों का नाम (ठा ४, १—पत्र २०४)। ३ वनवाहन नामक विद्यावर-नरेश की पत्नी (पत्रम ५, १३८)। ४ भगवान् अजितनाथ की दीक्षा-शिविका (विचार १२२; सम १५२)।

सुप्पभूय वि [सुप्रभूत] अति प्रचुर (पत्रम ५५, ३६)।

सुप्पसण्ण } वि [सुप्रसन्न] अत्यन्त प्रसाद-  
सुप्पसन्न } युक्त (नाट—मालती १६१; भवि)।

सुप्पसार वि [सुप्रसारित] सुख से पसारने योग्य (सुत्र २, २६)।

सुप्पसारिय वि [सुप्रसारित] अच्छी तरह पसारा हुआ (श्रीप)।

सुप्पसिद्ध देवो सुपसिद्ध (सम १५१; पि ३५०)।

सुप्पस्य वि [सुप्रसूत] सम्यग् उत्पन्न (श्रीप)।

सुप्पहूय (अप) देवो सुप्पभूय (भवि)।

सुप्पाडोस पुं [दि] अच्छा पड़ोस (था २७)।

सुप्पिय वि [सुप्रिय] अत्यन्त प्रिय (उत्त ११; ८; सुपा ४६५)।

सुप्पुरिस देवो सुपुरिस (रवण २४)।

सुफणि स्त्रीन [सुफणि] जिसमें तरु ग्रादि उवाला जाय ऐसा बटुवा ग्रादि पात्र (सूत्र १, ४, २, १०)।

सुवंधु पुं [सुवंधु] १ दूसरे बलदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५३)। २ भारतवर्ष का भावी सातवाँ कुलकर (सम १५३)।

सुवंभ पुंन [सुवन्धान] एक देव-विमान (सम १६)।

सुवंभण पुं [सुव्राहाण] प्रशस्त विप्र (पि २५०)।

सुवद्र वि [सुवद्र] अर्च्छी तरह वैवा हुआ (ज्व)।

सुवल पुं [सुवल] १ सोम-वंश का एक राजा (पउम ५, ११)। २ पहले बलदेव का पूर्व-जन्मीय नाम (पउम २०, १६०)।

सुवल्लिहू वि [सुवल्लिहू] अतिशय बलवान् (ध्रु १८)।

सुवहू वि [सुवहू] अति प्रभूत (ज्व)।

सुवहुल वि [सुवहुल] ऊपर देखो (कप्प)।

सुवाहु पुं [सुवाहु] १ एक राज-कुमार (विपा २, १—पत्र १०३)। २ ब्रौ. रुक्मिराज की एक कन्या (खाया १, ८—पत्र १४०)।

सुवुद्धि ब्रौ [सुवुद्धि] १ सुन्दर प्रज्ञा (धा १४)। २ पुं. राम-भ्राता भरत के साथ बीजा लेनेवाला एक राजा (पउम ८५, ३)। ३ एक मन्त्री (महा)।

सुवभ वि [सुवभ] १ सफेद, श्वेत (सुपा ५-६)। २ न. एक प्रकार की चाँदी (राय ७५)।

सुवभ न [शौभ्रय] सफेदी, श्वेतता (संबोध ५२)।

सुवभि पुं [सुरभि] १ सुगन्ध, सुगन्ध (सम ४१; भग. खाया १, १२)। २ वि. सुगन्धी, सुगन्ध-युक्त (उत्त ३६, २८; आचा १, ६, २, ३)। ३ मनोहर, मनोज्ञ, सुन्दर (खाया १, १२—पत्र १७४)।

सुवभिक्व न [सुभिक्ष] सुकाल (सुपा ३५८)।

सुवभु ब्रौ [सुभ्र] नारी, महिला (रंभा)।

सुभ पुं [सुभ] १ भगवान् पार्श्वनाथ का प्रथम गणधर (ठा ८—पत्र ४२६; सम १३)। २ भगवान् नमिनाथ का प्रथम गणधर (सम १५२)। ३ एक मुहूर्त (पउम १७, ८२)। ४ न. नाम-कर्म का एक भेद (सम ६७; कम्म १, २६)। ५ मंगल, कल्याण। ६ वि. मंगल-जनक, मांगलिक, प्रशस्त (कप्प; भग. कम्म १, ४२; ४३)। ७ सोस पुं [°सोस] भगवान् पार्श्वनाथ का द्वितीय गणधर (सम १३)। ८ पुं. सुवभ पुं [°सुवभ] राजस-वंश का एक राजा (पउम ५, २६२)। देखो सुह = शुभ।

सुभंकर न [शुभंकर] बहण नामक लोकान्तिक देवों का विमान (राज)। देखो सुहंकर।

सुभग वि [सुभग] १ आनन्द-जनक (कप्प)। २ सौभाग्य-युक्त, वल्लभ, जन-प्रिय (सुज्ज २०)। ३ न. पद्म-विशेष (सूय २, ३, १८; राय ८२)। ४ कर्म-विशेष (सम ६७; कम्म १, २६; ५०; धर्मसं ६२० टी)।

सुभगा ब्रौ [सुभगा] १ लता-विशेष (पएण १—पत्र ३३)। २ सुख नामक भूतेन्द्र की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४; खाया २—पत्र २५३; इक)।

सुभग्य वि [सुभग्य] भाग्य-शाली, जिसका भाग्य अर्च्छा हो वह (ज्व : ०३१ टी)।

सुभड देखो सुहड (नाट—मालती १३८)।

सुभणिय वि [सुभणित] वचन-कुशल (ज्व)।

सुभद्र पुं [सुभद्र] १ इक्ष्वाकु-वंश का एक राजा (पउम २८, १३६)। २ दूसरे वासुदेव तथा बलदेव के धर्म-गुरु (सम १५३)। ३ पुंन. एक देव-विमान (देवेन्द्र १४१)। ४ ४ नगर-विशेष (उप १०३१ टी)।

सुभद्रा ब्रौ [सुभद्रा] १ दूसरे बलदेव की माता (सम १५२)। २ प्रथम ब्रौ-रत्न, भरत चक्रकर्ता की अग्र-महिषी (सम १५२)। ३ बलि नामक इन्द्र के सोम आदि चारों लोक-पालों की एक-एक अग्रमहिषी का नाम (ठा ४, १—पत्र २०४)। ४ भूतानन्द आदि इन्द्रों के कालवाल नामक लोकपाल की एक-एक अग्र-महिषी का नाम (ठा ४, १—पत्र २०४)। ५ प्रतिमा-विशेष, एक व्रत (ठा ४, १—पत्र २०४)। ६ राम के भाई भरत की पत्नी (पउम २८, १३६)। ७ राजा कोणिक की ब्रौ (श्रीप)। ८ राजा श्रेणिक की एक ब्रौ (अंत २५)। ९ एक सती ब्रौ (पडि)। १० एक सार्थवाह-पत्नी (विपा १, २—पत्र २२)। ११ जम्बूद्वीप-विशेष, जिससे यह द्वीप जंबू द्वीप कहलाता है (इक)।

सुभय देखो सुभग (भग १२, ६—पत्र ५७८)।

सुभरिय वि [सुभृत] अर्च्छी तरह मरा हुआ, भरपूर, परिपूर्ण (ज्व)।

सुभा ब्रौ [सुभा] १ वैरोचन बलीन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ५, १—पत्र ३०२)। २

एक विजय-क्षेत्र (ठा २, ३—पत्र ८०)। ३ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, ११)।

सुभासिय देखो सुहासिय (उत्त २०, ५१; दस ६, १, १७)।

सुभासिर वि [सुभापितृ] सुन्दर बोलने-वाला। ब्रौ. °री (सुपा ५६८)।

सुभिक्व देखो सुट्ठिक्व (ज्व; सार्ध ३६)।

सुभिष पुं [सुभृत्य] अर्च्छा नौकर (सुपा ४६५; हे ४, ३३४)।

सुभीम वि [सुभीम] अति भयंकर (सुर ७, २३३)।

सुभीसण पुं [सुभीषण] रावण का एक सुभट (पउम ५६, ३१)।

सुभूम पुं [सुभूम] १ भारतवर्ष में उत्पन्न आठवाँ चक्रवर्ती राजा (ठा २, ४—पत्र ६६)। २ भारतवर्ष के भावी दूसरा कुलकर पुरुष (सम १५३)। भगवान् अमरनाथ का प्रथम श्रावक (विचार ३७८)।

सुभूसण पुं [सुभूपण] विभीषण का एक पुत्र (पउम ६७, १६)।

सुभोगा ब्रौ [सुभोगा] अघोलोक में रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७; इक)।

सुभोयण न [सुभोजन] व्रत-विशेष, एकाशन तप (संबोध ५८)।

सुभ न [सुभ] पुष्प, फूल (सम्मत्त १६?)। °सर पुं [°सर] कामदेव (रंभा)।

सुभइ पुं [सुभति] १ पांचवाँ जिन भगवान् (सम ४३)। २ ऐरवत क्षेत्र में होनेवाला दसवाँ कुलकर पुरुष (सम १५३)। ३ एक जैन उपासक (महानि ४)। ४ वि. शुभ बुद्धि वाला (गउड)। ५ पुं. एक नैमित्तिक विद्वान् (सुर ११, १३२)।

सुभंगल पुं [सुभङ्गल] ऐरवत वर्ष में होने वाले प्रथम जिनदेव (सम १५४)।

सुभंगला ब्रौ [सुभङ्गला] १ भगवान् ऋषभ-देव की एक पत्नी (पउम ३, ११६)। २ सूर्यवंशीय राजा विजयसागर की पत्नी (पउम ५, ६२)।

सुमगा पुं [सुमार्ग] अर्च्छा रास्ता (सुपा ३३०)।

सुमण } न [ सुमनस ] १ पुण्य, फूल  
सुमणस } (हे १, ३३; सुपा ८६) । २ पुं.

देव, सुर (सुपा ८६; ३३४) । ३ वि. सुन्दर मनवाला, सज्जन (सुपा ३३४; पउम ३६, १३०; ७७, १७; खण ३) । ४ हर्षवान्, श्रानन्दित, सुखी (ठा ३, २—पत्र १३०) । ५ पुंन. एक देव-विमान (देवेन्द्र १३६) । °भद्र पुं [ °भद्र ] १ भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाने वाला एक गृहस्थ (श्रंत १८) । २ श्रायं संभूतिविजय के एक शिष्य, एक जैन मुनि (कण्प) ।

सुमणसा स्त्री [ सुमनस ] वल्लो-विशेष (पण १—पत्र ३३) ।

सुमणा स्त्री [ सुमनस ] १ भगवान् चन्द्रप्रभ की प्रथम शिष्या (सम १५२; पव ६) । २ भूतानन्द आदि इन्द्रों के एक-एक लोकपाल की एक-एक अग्र-महिषी का नाम (ठा ४, १—पत्र २०४) । ३ राजा श्रेणिक की एक पत्नी (श्रंत २५) । ४ एक जम्बू वृक्ष का नाम (इक) । ५ शक्र की पत्नी नामक इन्द्राणी की एक राजधानी (इक) । ६ मालती का फूल (स्वप्न ६१) ।

सुमणो° देखो सुमण (उप पृ १८) ।

सुमणोहर वि [ सुमनोहर ] अत्यन्त मनोहर (उप पृ १८) ।

सुमर सक [ स्मृ ] याद करना । सुमरइ (हे ४, ७४) । भवि. सुमरिस्वसि (पि ५२२) । कर्म. सुमरिजइ (हे ४, ४२६; पि ५३७) । वक्र. सुमरंते (सुर ६; ६४; सुपा ४०८; पउम ७८, १६) । कवक. सुमरिजंत (पउम ५, १८६; नाट—मालती ११०) । संक. सुमरिअ, सुमरिऊण (कुमा; काल) । हेक. सुमरेउं, सुमरित्तए (पि ४६५; ५७८) । क. सुमरियव्व, सुमरेयव्व, सुमरणीअ (सुपा १५३; १८३; २१७; अग्नि १२०) ।

सुमर पुं [ स्मर ] कामदेव (नाट—चेत ८१) ।

सुमरण स्त्रीन [ स्मरण ] याद, स्मृति (कुमा; हे ४, ४२६; वसु; प्राप; सुपा ७१; १५६; ३६७; स ३३४) । स्त्री. °णा (स ६७०; सुपा २२०) ।

सुमराव सक [ स्मारय ] याद दिलाना । वक्र. सुमरावंत (कुप्र ५६) ।

सुमराविय वि [ स्मारित ] याद करावा हुआ (सुर १४, ४८; २४३) ।

सुमरिअ देखो सुमर = स्मृ ।

सुमरिअ वि [ स्मृत ] याद किया हुआ (पात्र) ।

सुमरुया स्त्री [ सुमरुन् ] भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पानेवाला राजा श्रेणिक की एक पत्नी (श्रंत २५) ।

सुमहुर वि [ सुमधुर ] श्रति मधुर (विपा १, ७—पत्र ७७) ।

सुमाणस वि [ सुमानस ] प्रयास्त मनवाला, सज्जन (पउम १०२, २७) ।

सुमाणस पुं [ सुमानुप ] सज्जन, उत्तम मनुष्य (सुपा २५६) ।

सुमालि पुं [ सुमालिन् ] एक राज-कुमार (पउम ६, २२०) ।

सुमिण पुंन [ स्वप्न ] १ स्वप्न, सपना (हे १, ४६; कुमा; महा; पडि; सुर ३, ६१; ६७) । २ स्वप्न के फल को बतलानेवाला शास्त्र (स्वप्न ४६) । °पाठय वि [ °पाठक ] स्वप्न के फल बतलानेवाले शास्त्रों का जानकार (खाया १, १—पत्र २०) । देखो सुविण ।

सुमित्त पुं [ सुमित्र ] १ भगवान् मुनिमुद्रत-स्वामी का पिता—एक राजा (सम १५१) । २ द्वितीय चक्रवर्ती का पिता (सम १५२) । ३ चतुर्थ बलदेव के पूर्व जन्म का नाम (पउम २०, १६०) । ४ छठवें बलदेव के धर्मगुरु—एक जैन मुनि (पउम २०, २०५) । ५ एक वणिक का नाम (उप ७२८ टी) । ६ अर्च्या मित्र; 'सुमित्तोव्व जिणवम्मो' (सुपा २३४) । ७ भगवान् शान्तिनाथ की प्रथम निज्ञा देनेवाले एक गृहस्थ का नाम (सम १५१) ।

सुमित्ता स्त्री [ सुमित्रा ] लक्ष्मण की माता और राजा दशरथ की एक पत्नी (पउम २५, ४) । °तणय पुं [ °तनय ] लक्ष्मण (सं ४, १५; १४; ३२) ।

सुमित्ति पुं [ सौमित्रि ] सुमित्रा का पुत्र—लक्ष्मण (पउम ४५, ३६) ।

सुमुइय वि [ सुमुदित ] श्रति-हर्षित (श्रीप) । सुमुखी देखो सुमुही (पिण) ।

सुमुणिअ वि [ सुजात ] अर्द्धी तरह जाना हुआ (सुपा २८२) ।

सुमुह पुं [ सुमुख ] १ भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पानेवाला एक राज-कुमार (श्रंत ३) । २ राक्षस-वंश का एक राजा, एक लंका-पति (पउम ५, २६१) । ३ न. छन्द-विशेष (अग्नि २०) ।

सुमुही स्त्री [ सुमुखी ] छन्द-विशेष (पिण) ।

सुमेधा स्त्री [ सुमेधा ] ऊर्ध्व लोक में रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७) ।

सुमेरु पुं [ सुमेरु ] मेरु-पर्वत (पात्र; पउम ७५, ३८) ।

सुमेहा देखो सुमेधा (इक) ।

सुमेहा स्त्री [ सुमेधा ] सुन्दर बुद्धि (उप पृ ३६८) ।

सुमंत देखो सुण = सु ।

सुम्ह पुं. व. [ सुम्ह ] देश-विशेष (हे २, ७४) ।

सुर पुं [ सुर ] १ देव, देवता (पण १, ४—पत्र ६८; कण्प; जी ३३; कुमा) । २ एक राजा का नाम (उप ७६५) । °अण न [ °वन ] नन्दन-वन (सं ६, ८६) । °अरु पुं [ °तरु ] कल्प वृक्ष (नाट) । °करडि पुं [ °करटिन् ] ऐरावण हाथों (सुपा १७६) । °करि पुं [ °करिन् ] वही श्रायं (सुपा २६१) । °कुंभि पुं [ °कुंभिन् ] वही (सुपा २०१) । °कुमार पुं [ कुमार ] भगवान् वामुपुण्य का शासन-यज्ञ (पव २६) । °कुसुम न [ °कुसुम ] लवंग, लौंग (पि १४) । °गय पुं [ °गज ] इन्द्र-हस्ती, ऐरावण (पात्र; सं २, २२) । °गिरि पुं [ °गिरि ] मेरु पर्वत (सुपा २; ३१; ३५४; सण) । °गिह देखो °वर (उप ७६८ टी) । °गुरु पुं [ °गुरु ] १ बृहस्पति (पात्र; सुपा १७६) । २ नास्तिक मत का प्रवर्तक एक आचार्य (मोह १०१) । °गोव पुं [ °गोप ] कीट-विशेष, इन्द्रगोप (खाया १, ६—पत्र १६०; पात्र) । °घर न [ °गृह ] १ देव-मन्दिर (कुप्र ४) । २ देव-विमान (सण) । °चमू स्त्री [ °चमू ] देव-सेना (सुपा ४५) । °चाव पुं [ °चाप ] इन्द्र-धनुष (गा ५८५; ८०८; सुपा १२४) । °जाल न [ °जाल ] इन्द्रजाल (राज) । °णई स्त्री [ °नदी ] गंगा नदी (पात्र) । °णाह पुं [ °नाथ ] इन्द्र (गा ८६४; वे) । °तरंगिणि

स्त्री [०तरङ्गिणी] गंगा नदी (सण) । ०तरु देखो अरु (सण) । ०ताण पुं [०त्राण] यवननृप, सुलतान (ती १५) । ०दारु न [०दारु] देवदार की लकड़ी (स ६३३) । ०धंसी स्त्री [०ध्वंसिनी] विद्या-विशेष (पउम ७, १३७) । ०धणु, ०धणुह न [०धनुप्] इन्द्र-धनुष (कुमा; सण) । ०नई देखो ०णई (श्रु ७७) । ०नाह देखो ०णाह (सण) । ०पहु पुं [०प्रभु] इन्द्र, देव-राज (सुपा ५-२; उप १४२ टी; सण) । ०पुर न [०पुर] देव-पुरी, अमरावती, स्वर्ग (पउम ५०, १; सण) । ०पुरी स्त्री [०पुरी] वही अर्थ (पात्र; कुमा) । ०प्पिअ पुं [०प्रिय] एक यक्ष (अंत) । ०वंदी स्त्री [०वन्दी] देवी, देव-स्त्री (से ६, ५०) । ०भवण न [०भवन्] देव-प्रासाद (भग; सण) । ०मंति पुं [०मन्त्रिन्] बृहस्पति (सुपा ३२६) । ०मंदिर न [०मन्दिर] १ देहरा, मन्दिर (कुप्र ४) । २ देव-विमान (सण) । ०मुणि पुं [०मुनि] नारद मुनि (पउम ६०, ८) । ०रमण न [०रमण] रावण का एक वगीचा (पउम ४६, ३७) । ०राय पुं [०राज] इन्द्र (सुपा ४५; तिरि २४) । ०रिड पुं [०रिपु] दैत्य, दानव (पात्र) । ०लोअ पुं [०लोक] स्वर्ग (महा) । ०लोइय वि [०लौकिक] स्वर्गीय (पुष्क २५८) । ०लोग देखो ०लोअ (पउम ५२, १८) । ०वइ पुं [०पति] १ इन्द्र, देव-राज (पात्र; सुपा ४४; ४८; ८८; ४०२) । २ इन्द्र नामक एक विद्यावर-नरेश (पउम ७, २७) । ०वण पुं [०वर्ण] एक देव-विमान (सम १०) । ०वधू देखो ०वहू (पि ३८७) । ०वन्नी स्त्री [०पर्णी] पुंनाग वृक्ष (पात्र) । ०वर पुं [०वर] उत्तम देव (भग) । ०वरिंद पुं [०वरेन्द्र] इन्द्र, देव-राज (आ २७) । ०वहू स्त्री [०वधू] देवाङ्गना, देवी (कुमा) । ०वारण पुं [०वारण] ऐरावण हस्ती (उप २११ टी) । ०संगीय न [०संगीत] नगर-विशेष (पउम ८, १८) । ०सरि स्त्री [०सरित्] भागीरथी; गङ्गा नदी (गउड; उप ४ ३६; सुपा ३३; २८६) । ०सिहरि पुं [०शिखरिन्] मेरु पर्वत (सण) । ०सुंदर पुं [०सुन्दर] रथचक्रवाल-नगर का एक

विद्यावर-नरेश (पउम ८, ४१) । ०सुंदरी स्त्री [०सुन्दरी] १ देव-वधू, देवाङ्गना (सुर ११, ११५; सुपा २००) । २ एक राज-पुत्री (सुर ११, १४३) । ३ एक राज-कुमारी (तिरि ५३) । ०सुरहि स्त्री [०सुरभि] काम-धेनु (रयण १३) । ०सेल पुं [०शैल] मेरु-पर्वत (सुपा १३०) । ०हृत्थि पुं [०हृत्थिन्] ऐरावण हाथी (से ६, ६) । ०उह न [०युध] वज्र (पात्र) । ०देव पुं [०देव] एक श्रावक का नाम (उवा) । ०देवी स्त्री [०देवी] पश्चिम रुचक पर रहनेवाली एक दिशा-कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६; इक) । ०रि पुं [०रि] राक्षसवंश का एक राजा, एक लंका-पति (पउम ५, २६२) । ०लय पुं [०लय] स्वर्ग (पात्र; सुप्र १, ६, ६; सुपा ५६६) । ०हिराय पुं [०धिराज] इन्द्र (उप १४२ टी) । ०हिव पुं [०धिप] इन्द्र (से १५, ५३) । ०हिवइ पुं [०धिपति] वही (सुपा ४६) ।

सुरइ स्त्री [०सुरति] सुख (पएह १, ४—पत्र ६८) ।

सुरइय वि [०सुरचित] अच्छी तरह किया हुआ (पएह १, ४—पत्र ६८) ।

सुरंगणा स्त्री [०सुराङ्गना] देव-वधू (सुपा २४६) ।

सुरंगा स्त्री [०सुरङ्गा] सुरंग, जमीन के भीतर का मार्ग (उप ४ २६; महा; सुपा ४५४) ।

सुरंगि पुं स्त्री [०दे] वृक्ष-विशेष, शिग्रु वृक्ष, सहिजना का गच्छ (दे ८, ३७) ।

सुरजेट्ट पुं [०दे] वरुण देवता (दे ८, ३१) ।

सुरड पुं. व. [०सुराट्ट] एक भारतीय देश जो आजकल काठियावाड़ के नाम से प्रसिद्ध है (साया १, १६—पत्र २०८; हे २, ३४; पिड २०२) ।

सुरणुचर वि [०स्वणुचर] सुख से करते योग्य (ठा ५, १—पत्र २६६) ।

सुरत } देखो सुरय (पउम १६, ८०; संलि  
सुरद } ६; प्राक १२) ।

सुरभि पुं स्त्री [०सुरभि] १ वसन्त ऋतु । २ स्त्री. गौ, गैया (कुम्मा १४) । ३ वि. सुगन्ध-युक्त, सुगंधी (सम ६०; गा ८६१; कप्प; कुम्मा १४) । ४ पुंन. एक देव-विमान (देवेन्द्र १४०) । गंध वि [०गन्ध] सुगन्धी (आचा) । ०पुर न [०पुर] नगर-विशेष (राज) । देखो सुरहि ।

सुरमणीअ वि [०सुरमणीय] अत्यन्त मनोहर (सुर ३, ११२) ।

सुरम्भ वि [०सुरम्भ] ऊपर देखो (श्रीप) ।

सुरय न [०सुरत] मैथुन, स्त्री-संभोग (सुर १३, २०; गा १५५; काप्र ११३) ।

सुरयण न [०सुरत्न] सुन्दर रत्न (सुपा ३२७) ।

सुरयणा स्त्री [०सुरचना] सुन्दर रचना (सुपा ३२) ।

सुरस वि [०सुरस] १ सुन्दर रसवाला (साया १, १२—पत्र १७४) । २ न. तुण-विशेष (दे १, ५४) । ०लया स्त्री [०लता] तुलसी-लता (दे ५, १४) ।

सुरसुर पुं [०सुरसुर] ध्वनि-विशेष, 'सुर सुर' आवाज (श्रीप २८९) ।

सुरसुर अक [०सुरसुरा] 'सुर सुर' आवाज करना । वक्र. सुरसुरंत (गा ७४) ।

सुरह सक [०सुरभय] सुगन्धित करना । सुरहेइ (कुमा; प्रासू ६) ।

सुरह पुंन [०सौरभ] सुन्दर गन्ध, खुशबू; 'गंधोन्वित्र सुरहो मालईइ मलयं पुण विण्णसो' (भत्त १२१) ।

सुरह पुं [०सुरथ] साकेतपुर का एक राजा (महा) ।

सुरहि पुं स्त्री [०सुरभि] १ वसन्त ऋतु (रंभा; पात्र; कप्प) । २ चैत्र मास (गा १०००) । ३ वृक्ष-विशेष, शतद्रु वृक्ष (आचा २, १, ८; ३) । ४ स्त्री. गौ, गैया (रयण १३; वर्मवि ६५; पात्र; प्रासू १६८) । ५ न. नाम-कर्म का एक भेद, जिसके उदय से प्राणी के शरीर में सुगन्ध उत्पन्न होती है (कम्म १, ४१) । ६ वि. सुगन्ध-युक्त (उवा; कुमा; गा ३१७; ३६६; सुर ३, ३६; हे २, १५५) । देखो सुरभि ।

सुरा स्त्री [०सुरा] मदिरा, दारू (उवा) । ०रस पुं [०रस] समुद्र-विशेष (दीव) ।

सुरिंद पुं [०सुरेन्द्र] १ इन्द्र, देव-स्वामी (सुर २, १५३; गउड; सुपा ४४) । २ एक

विद्याधर नरेश (पउम ७, २६) । °दत्त पुं [°दत्त] एक राज-कुमार (उप ६३६) ।  
 सुरिंदिय पुं [सुरेन्द्रक] विमानेन्द्रक, देव-विमान-विरोध (द्वेन्द्र १३७) ।  
 सुरी त्री [सुरी] देवी (कुमा)  
 सुरंगा देवी सुरंगा (पउम ८, १५८) ।  
 सुरुव पुं [सुर] देश-विशेष (हे २, ११३; पड्) । °ज वि [°ज] देश-विशेष में उत्पन्न (कुमा) ।  
 सुरुव वि [सुरुव] अत्यन्त रोप-युक्त (पउम ६८, २५) ।  
 सुरुवा त्री [सुरुवा] एक इन्द्राणी (णाया २—पत्र २५२) । देवी सुरुवा ।  
 सुरुव पुं [सुरुव] ? भूत-निकाय के दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । २ न. सुन्दर ह्य । ३ वि. सुन्दर बनवाला (ज्वा; भग) ।  
 सुरुवा त्री [सुरुवा] ? मुख्य तथा प्रतिरूप नामक भूतेन्द्रों की एक एक अग्र-महिषी (ठा ४, १—पत्र २०४) । २ भूतानन्द नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी (इक) । ३ एक दिशा-कुमारी देवी (ठा ४, १—पत्र १६८; ६—पत्र ३६१) । ४ एक कुलकर-पत्नी (सम १५०) । ५ सुन्दर बनवाली (महा) ।  
 सुरस पुं [सुरेश] ? देव-पति, इन्द्र । २ उत्तम देव (मुपा ६१४) ।  
 सुरेशर पुं [सुरेश्वर] इन्द्र, देव-राज (मुपा २७; कुप्र ४) ।  
 सुलक्षणि वि [सुलक्षणिन्] उत्तम लक्षण-वाला (धर्मवि १४२) ।  
 सुलग्ग वि [सुलग्ग] अच्छी तरह लगा हुआ (महा) ।  
 सुलद्ध वि [सुलद्ध] सम्पत् प्राप्त (णाया १, १—पत्र २४; उवा) ।  
 सुलम्भ } वि [सुलम्भ] सुख से प्राप्त हो सके  
 सुलभ } वह (या १२; सुख २, १५; महा) ।  
 सुलस पुं [सुलस] पर्यंत-विशेष (इक) ।  
 सुलस न [दे] कुमुम्भ-रक्त वज्र (दे ८, ३७) ।  
 सुलसमंजरी } त्री [दे] तुलसी (दे ८, ४०;  
 सुलसा } पात्र) ।

सुलसा त्री [सुलसा] ? नववें जिनदेव की प्रथम शिष्या (सम १५२) । २ नगवान् महावीर की एक थाविका, जिसका आत्मा आगामि काल में तीर्थकर होगा (ठा ६—पत्र ४५५; सम १५४) । ३ नाग नामक गृहपति की त्री (अंत ४) । ४ शक्र की एक अग्र-महिषी, एक इन्द्राणी (पउम १०२, १५६) । ५ शंखपुर के राजा सुन्दर की पत्नी (महा) ।  
 सुलह देवी सुलभ (स्वप्न ४८; महा; दं ४६) ।  
 सुलाह पुं [सुलाभ] अच्छा नफा (मुपा ४४६) ।  
 सुलो त्री [दे] उल्का, आकाश से गिरती आग (दे ८, ३६) ।  
 सुलुसुल } अक[सुलमुलाय] 'सुल' 'सुल'  
 सुलुसुलाय } आवाज करना । सुलुसुलामइ (तंदु ४१) । वक्र. सुलुसुलित्त, सुलुसुलित्त (तंदु ४४; महा) ।  
 सुलूह वि [सुलूह] अत्यन्त लूना—हवा (सूप १, १३, १२) ।  
 सुलोअ देवी सिलोअ = श्लोक (धवि १६) ।  
 सुलोयण पुं [सुलोचन] एक विद्याधर-नरेश (पउम ५, ६६) ।  
 सुलोळ वि [सुलोळ] अति चपल (कप्पु) ।  
 सुल्ल न [सुल्ल] शूल-प्रोत मांस (दे ८, ३६; पात्र) ।  
 सुव अक [स्वप्] सोना । सुवइ, सुवत्ति (हे १, ६४; पड्; महा; रंभा) । भवि. सुविस्सं (पि ५२६) । वक्र. सुवत्त, सुवमाण (पात्र; से १, २१; भग) । संक्र. सुविज्जण (कुप्र ५६) ।  
 सुव देवी स = स्व (हे २, ११४; पड्; कुमा) ।  
 सुव (अप) देवी सुअ = श्रुत, सुत (भवि) ।  
 सुवंस पुं [सुवंश] ? अच्छा वांस । २ वि. सुन्दर कुल में उत्पन्न, खानदानी (हे ४, ४१६) ।  
 सुवग्गु पुं [सुवल्गु] एक विजय-क्षेत्र, जिसकी राजधानी खड्गपुरी है (ठा २, ३—पत्र ८०; इक) ।  
 सुवच्छ पुं [सुवत्स] ? व्यन्तर-देवों का एक इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । २ एक

विजय-क्षेत्र, प्रान्त-विशेष, जिसकी राजधानी कुंडला नगरी है (ठा २, ३—पत्र ८०; इक) ।  
 सुवच्छा त्री [सुवत्सा] ? अथोलोक में रहनेवाली एक दिशा-कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७) । २ सीमन्त पर्यंत पर रहनेवाली एक देवी (इक) ।  
 सुवज्ज पुं [सुवज्ज] ? एक विद्याधर-वंशीय राजा (पउम ५, १६) । २ पुंन, एक देव-विमान (सम २५) ।  
 सुवहिय वि [सुवत्तित] अतिशय गोल किया हुआ (राज) ।  
 सुवण न [स्वपन्] श्वन (श्रीध ८७; पंचा १, ४५; उप ७६२) ।  
 सुवण्ण पुं [सुवर्ण] ? गड़ पत्थी (उत्त १४; ४७) । २ भवनपति देवों की एक जाति (श्रीप) । ३ आदित्य, सूर्य (गउड) । °कुमार पुं [°कुमार] भवनपति देवों की एक जाति (इक) ।  
 सुवण्ण पुं [दे] अर्जुन वृक्ष (दे ८, ३७) ।  
 सुवण्ण न [सुवर्ण] ? सोना, हेम (उवा; महा; णाया १, १७; गउड) । २ पुं. भवन-पति देवों की एक जाति (भग) । ३ सोलह कर्म-भाषक का एक वांट (अणु १५५) । ४ सुन्दर वणं । ५ वि. सुन्दर वणंवाला (भग) ।  
 °आर, °कार पुं [°कार] सोनी, सुनार (दे महा) । °कुंभ पुं [°कुम्भ] प्रथम बलदेव के धर्म-गुरु एक जैन मुनि (पउम २०, २०५) । °कुसुम न [°कुसुम] सुवर्ण-युविका लता का फूल (राय ३१) । °कूला त्री [°कूला] नदी-विशेष (सम २७; इक) । °गुलिया त्री [°गुलिका] एक दावों का नाम (महा) । °सिला त्री [°शिला] एक महौपवि (ती ५; राज) । °गर पुं [°गर] सोने की लान (णाया १, १७—पत्र २२८) । °र पुं [°र] सोनी (उप पृ ३५१) । देवी सुवन्न = सुवर्ण ।  
 सुवण्णविदु पुं [दे] विष्णु (दे ८, ४०) ।  
 सुवण्णिअ वि [सौवर्णिक] सुवर्ण-मय, सोने का बना हुआ (हे १, १६०; पड्; प्राक् ३६) ।  
 सुवत्त देवी सुवत्त (राज) ।

सुवन्न न [सुवर्ण] १ सोना (सं ५०; प्रासू २; कुप्र १, कुमा) । २ वि. सुन्दर अक्षरवाला (कुप्र १) । ३ कुमार पुं [कुमार] भवनपति देवों की एक जाति (भग; सम ८३) । ४ कूलप्रवाय पुं [कूलप्रपात] एक ह्रद जहाँ से सुवर्णकूला नदी बहती है (ठा २, ३—पत्र ७२) । ५ गार पुं [कार] सोनी (गाया १, ८—पत्र १४०; उप पृ ३५३) । ६ जूहिया स्त्री [यूधिका] लता-विशेष (परण १७—पत्र ५२६) । ७ गार देखो गार (सुपा ५६५) । देखो सुवण्ण = सुवर्ण ।

सुवन्न वि [सौवर्ण] सोने का बना हुआ (कुप्र ४) ।

सुवन्नलुगा स्त्री [दे] दतवन करने का पात्र—लोटा आदि (कुप्र १४०) ।

सुवप्प पुं [सुवप्र] एक विजय-क्षेत्र (ठा २, ३—पत्र ८०) ।

सुवयण न [सुवचन] सुन्दर वचन (भग) ।

सुवुर (अप) देखो सुमर । सुवरद, सुवरहि सुवर (भवि; वि २५१) ।

सुवहु देखो सुवहु (प्राप) ।

सुवाय पुंन [सुवात] एक देव-विमान (सम १०) ।

सुवास पुं [सुवर्ष] १ सुन्दर वृष्टि (उप ८४६) । २ छन्द-विशेष (पिंग) ।

सुवासणी देखो सुवासिणी (धर्मवि १२३) ।

सुवासव पुं [सुवासव] एक राज-कुमार (विपा २, ४) ।

सुवासिणी स्त्री [दे. सुवासिनी] जिसका पति जीवित हो वह स्त्री (सिरि १५६) ।

सुवाहा अ [स्वाहा] देवता को हविष आदि अर्पण का सूचक अव्यय (सिरि १६७) ।

सुविआज्जअ वि [सुव्यजित] विशेष रूप से उपाजित (तंडु ५६) ।

सुविअट्ट वि [सुविदग्ध] अत्यन्त चतुर (नाट—रत्ना ६) ।

सुविइय वि [सुविदित] अच्छी तरह ज्ञात (उक्क सुपा ४०४) ।

सुविउ वि [सुविट्ट] अच्छा जानकार (आ २८) ।

सुविउल वि [सुविपुल] अति विशाल (उव) ।

सुविकम पुं [सुविक्रम] भूतानन्द नामक इन्द्र के हस्ति-सैन्य का अविपति (ठा ५, १—पत्र ३०२; इक) ।

सुविकखाय वि [सुविख्यात] सुप्रसिद्ध (सुर ६, ६४) ।

सुविगा स्त्री [सुकिक्का, सुकी] मैना (उप ६७३; ६७५) ।

सुविजा स्त्री [सुविद्या] उत्तम विद्या (प्रासू ५३) ।

सुविण देखो सुमिण (सुर ३, १०१; महा; रंभा) । २ न्नु वि [इ] स्वप्न-शास्त्र का जानकार (उप पृ ११६; सुर १०, ६८) ।

सुविणट्ट वि [सुविनट्ट] विलकुल नष्ट (गा ७४०) ।

सुविणिच्छिय वि [सुविनिच्छित] अच्छी तरह निर्णीत (उव) ।

सुविणिम्मिय वि [सुविनिर्मित] अच्छी तरह बनाया हुआ (गाया १, १—पत्र १२) ।

सुविणीय वि [सुविनीत] १ अतिशय दूर किया हुआ (उत्त १, ४७) । २ अत्यन्त विनय-युक्त (दस ६, २, ६) ।

सुविच्च न [सुवृत्त] १ अत्यन्त गोलाकार । २ नवाचार, अच्छा आचरण (सुर १, २१) ।

सुवित्थउ वि [सुविस्तृत] अति विस्तारयुक्त (अजि ४०; प्रासू १२८; द्र ६८) ।

सुविथिन्न वि [सुविस्तीर्ण] ऊपर देखो (सुर १, ४५; १२, १) ।

सुविथि देखो सुविहि (सम ४३) ।

सुविभज्ज वि [सुविभज] जिसका विभाग अनायास हो सके वह (ठा ५, १—पत्र २६६) ।

सुविभत्त वि [सुविभक्त] अच्छी तरह विभक्त (गाया १, १ टी—पत्र ५; औप; भग) ।

सुविन्दिअ वि [सुविस्मित] अतिशय आश्चर्यान्वित (उत्त २०, १३) ।

सुवियक्खण वि [सुविचक्षण] अति चतुर (सुपा १५०) ।

सुवित्राण न [सुविज्ञान] अच्छा ज्ञान, सुन्दर जानकारी, पंडिताई (सट्ठि १६) ।

सुविर वि [स्वप्नृ] स्वप्न-शील, सोने की आदतवाला (ओषभा १३३; दे ८, ३६) ।

सुविरइय वि [सुविरचित] अच्छी तरह घटित, सुघटित (उवा २०६) ।

सुविराइय वि [सुविराजित] सुशोभित (सुपा ३१०) ।

सुविराइय वि [सुविराधित] अतिशय विराधित (उव) ।

सुविलास वि [सुविलास] सुन्दर विलासवाला (सुर ३, ११४) ।

सुविवेइय वि [सुविवेचित] सम्यग् विवेचित (उव) ।

सुविवेच सक [सुवि + विच्] अच्छी तरह व्याख्या करना । संक. सुविवेचित (?य) (धर्मसं १३११) ।

सुविसट्ट वि [सुविकसित] अच्छी तरह विकसित (सुर ३, १११) ।

सुविसत्थ पुं [दे] व्यभिचारी पुरुष (वजा ६८) ।

सुविसाय पुंन [सुविसात] एक देव-विमान (सम ३८) ।

सुविहाणा स्त्री [सुविधाना] विद्या-विशेष (पउम ७, १३७) ।

सुविहि पुं [सुविधि] १ नववां जिन भगवान् (सम ८५; पडि) । २ पुंस्त्री. सुन्दर अनुष्ठान (परह २, ५ टी—पत्र १४६) । ३ न. रामचन्द्र तथा लक्ष्मण का एक यान; 'चंक्रमणं हवइ सुविहि-नामेण' (पउम ८०, ४) ।

सुविहिअ वि [सुविहित] सुन्दर आचरण-वाला, सदाचारी (सम १२५; भास १; उव; स १३०; सार्व ११५; द्र ३२) ।

सुवीर पुं [सुवीर] १ यदुराज का एक पौत्र (अंत) । २ पुंन. एक देव-विमान (सम १२) ।

सुवीसत्थ वि [सुविश्वस्त] अच्छी तरह विश्वासप्राप्त (सुर ६, १५६; सुपा २११) ।

सुवुण्णा स्त्री [दे] संकेत, इशारा (दे ८, ३७) ।

सुवुरिस देखो सुपुरिस (गउड) ।

सुवे अ [श्वस] आगामी कल (हे २, ११४; चंड; कुमा) ।

सुवेल पुं [सुवेल] १ पर्वत-विशेष (से ८, ८०) । २ न. नगर-विशेष (पउम ५४, ४३) ।

सुयो देखो सुये (पड; प्राण) ।

सुव्य न [शुव्य] १ तांत्रा, तात्र (तो २) ।  
२ रज्जु, रस्ती । ३ जल-सनीप । ४ आचार ।  
५ यज्ञ का कार्य (हे २, ७६) ।

सुव्यंत देखो सुण ।

सुव्यत देखो सुव्यय (ठा २, ३—पत्र ७८) ।

सुव्यत्त वि [सुव्यक्त] स्फुट, सुव्यष्ट (अंत  
२०; औप; नाट—मृच्छ २८) ।

सुव्यमाग देखो सुण ।

सुव्यय पुं [सुव्रत] १ भारतवर्ष में उत्पन्न  
बौद्धों जिनदेव, मुनिसुव्रत स्वामी (तो ८;  
पत्र ३५) । २ ऐरवत वर्ष के एक भावी  
जिनदेव (सम १५४) । ३ छठवें जिनदेव के  
गणवर (१५२) । ४ एक जैन मुनि जो  
तीसरे बलदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे (पउम  
२०, १६२) । ५ आठवें बलदेव के धर्म-गुरु  
(पउम २०, २०६) । ६ भगवान् पारवनाय  
का मुख्य श्रावक (कप्य) । ७ एक ज्योतिष्क  
महा-ग्रह (राज) । ८ एक दिवस का नाम  
(आचा २, १५; ५; कप्य) । ९ न. एक  
गोत्र (कप्य) । १० वि. सुन्दर व्रतवाला (पव  
३५) । ११ गि पुं [गिन] एक दिवस का  
नाम (कप्य) ।

सुव्यया स्त्री [सुव्रता] १ भगवान् धर्मनाय  
की माता (सम १५१) । २ एक जैन साध्वी  
(सुर १५, २४७; महा) ।

सुव्यया स्त्री [दे] अम्मा, माता (दे ८, ३८) ।

सुस देखो सुस; सुसद् व पंके न वहति  
निष्करा वरहिणो न नच्चति (वजा १३४;  
भवि) । क. सुसियच्च (सुर ४, २२६) ।

सुसंगद वि [सुसंगत] अति-संबद्ध (प्राक  
१२) ।

सुसुंनमिअ वि [सुसंयमित] अति-नियन्त्रित  
(दे) ।

सुसंडिआ स्त्री [दे] शूला-प्रोत मांस (दे ८,  
३६) ।

सुसंय वि [सुसत्क] अति सुदर अहां  
जणा कुण्ह तवं सुसंतयं (पउम ७८, ५६) ।

सुसंनिविट्ट वि [सुसंनिविट्ट] अच्छी तरह  
स्वित (सुपा १३३) ।

सुसंपरिगहिय वि [सुसंपरिगृहीत] खूब  
अच्छी तरह ग्रहण किया हुआ (राय ६३) ।

सुसंपिणद्ध वि [सुसंपिनद्ध] खूब अच्छी  
तरह बेंचा हुआ (राय) ।

सुसंभंत वि [सुसंभ्रान्त] अतिशय व्याकुल  
(उत्त २०, १३) ।

सुसंमिअ वि [सुसंभृत] अच्छी तरह संस्कृत  
(स १८६; उप ६४८ वी) ।

सुसंमय वि [सुसंमत] अच्छी तरह संमति-  
युक्त (सुर १०, ८२) ।

सुसंयुअ } वि [सुसंयुत] १ परिगत,  
सुसंयुड } व्याप्त । २ अच्छी तरह पहना  
हुआ (आया १, १—पत्र १६; पि २१६) ।  
३ जितेन्द्रिय । ४ रक्षा हुआ (उत्त २, ४२) ।

सुसंहय वि [सुसंहत] अतिशय संश्लिष्ट  
(औप) ।

सुसञ्ज वि [सुसञ्ज] अच्छी तरह तय्यार  
(सुपा ३११) ।

सुसण्णप्प देखो सुसन्नप्प (राज) ।

सुसद् वि [सुशब्द] १ सुन्दर आवाजवाला ।  
२ प्रसिद्ध, विद्वान्त (सुपा ५६६) ।

सुसन्नप्प वि [सुसंज्ञाप्य] सुन्न-बोव्य (कत्त) ।

सुसमत्थ वि [सुसमर्थ] सुशक्त, अतिशय  
सामर्थ्यवाला (सुर १, २३२) ।

सुसमदुसमा } स्त्री [सुपमदुप्पमा] काल-  
सुसमदूसमा } विशेष, अवसर्पिणी-काल  
का तीसरा और उत्सर्पिणी का चौथा आरा  
(इक; ठा २, ३—पत्र ७६) ।

सुसमसुसमा स्त्री [सुपमसुपमा] काल-विशेष,  
अवसर्पिणी का पहला और उत्सर्पिणी का  
छठवां आरा (इक; ठा १—पत्र २७) ।

सुसमा स्त्री [सुपमा] १ काल-विशेष, अव-  
सर्पिणी का दूसरा और उत्सर्पिणी का पांचवां  
आरा (ठा २, ३—पत्र ७६; इक) । २  
छन्द-विशेष (पिन) ।

सुसमाहर सक [सुसमा + ह] अच्छी तरह  
ग्रहण करना । सुसमाहरे (सूत्र १, ८, २०) ।

सुसमाहिअ वि [सुसमाहित] अच्छी तरह  
समाविसंपन्न (वस ५, १, ६; उत्त २०, ४) ।

सुसमिद्ध वि [सुसमृद्ध] अत्यन्त समृद्ध  
(नाट—मृच्छ १५६) ।

सुसर पुंन [सुस्वर] १ एक देव-विमान (सम  
१७) । २ न. नामकर्म का एक भेद, जिसके  
उदय से सुन्दर स्वर की प्राप्ति हो वह कर्म  
(सम ६७; कम्म १, २६; ५१) । देखो

सुस्सर, सुसूर ।

सुसा स्त्री [स्वस] बहिन, भगिनी (सूत्र १,  
३, १, १ वी) ।

सुसा देखो सुण्हा = सुपा (कुमा) ।

सुसागय न [सुस्वागत] सुन्दर स्वागत  
(भग) ।

सुसागर पुंन [सुसागर] एक देव-विमान  
(सम २) ।

सुसाण न [शमशान] मुर्दाघाट, मरघट  
(आया १, २—पत्र ७६; हे २, ८६; स  
५६७; धा १४; महा) ।

सुसामण्ण न [सुश्रामण्य] अच्छा साधुवन  
(उवा) ।

सुसाय वि [सुस्वाद] स्वादिष्ट, सुन्दर स्वाद-  
वाला (पउम ८२; ६६; १०२, १२२) ।

सुसाल पुंन [सुशाल] एक देव-विमान  
(सम ३५) ।

सुसायग } पुं [सुश्रावक] अच्छा श्रावक—  
सुसायय } जैन गृहस्व (कुमा; पडि; ड २१) ।

सुसाहय देखो सुसंहय (परह १, ४—पत्र  
७६) ।

सुसाहु पुं [सुसाधु] उत्तम मुनि (परह २,  
१—पत्र १०१; उव) ।

सुसिअ वि [शुष्क] सूखा हुआ (सुपा २०४;  
कुप्र १३) ।

सुसिअ वि [शोपित] सुखाया हुआ (महा;  
वजा १५०; कुप्र १३) ।

सुसिक्खिअ वि [सुशिक्षित] अच्छी तरह  
शिक्षा को प्राप्त (सा २०) ।

सुसिणिद्ध वि [सुस्निग्ध] अत्यन्त स्नेह-युक्त  
(सुर ५, १६६) ।

सुसित्थ देखो सुत्थ = सौत्थ्य (संवि १२) ।

सुसिन्न वि [सुशीर्ण] अति सड़ा हुआ (सुपा  
४६६) ।

सुसिर वि [शुपिर] १ पोली, बाली । छूँछा  
(उप ७२८ वी; कुप्र १६२) । २ पुंन, एक  
देव-विमान (सम ३७) ।

सुसिलिह वि [ सुशिलिह ] सुसंगत, अति संवद (सुर १०, ८२; पंचा १८, २३)।

सुसिरस पुं [ सुशिष्य ] उत्तम चेला (उप पृ ४०१)।

सुसीअ वि [ सुसीत ] अति शीतल (कुमा)।

सुसीम न [ सुसीम ] नगर-विशेष (उप ७२८ टी)।

सुसीमा स्त्री [ सुसीमा ] १ भगवान् पद्मप्रभ की माता (सम १५१)। २ कृष्ण वासुदेव की एक पत्नी (अंत १५)। ३ वत्स नामक विजय-क्षेत्र की एक राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०)।

सुसील न [ सुशील ] १ उत्तम स्वभाव (पउम १४, ४४)। २ वि. उत्तम स्वभाववाला, सदाचारी (प्रासू ८)। ३ वंत वि [ वन् ] सदाचारी (पउम १४; ४४; प्रासू ३६)।

सुसु पुं [ शिशु ] बच्चा, बालक। १ मार पुं [ मार ] जलचर प्राणी की एक जाति, महिषाकार मत्स्य-विशेष (पि ११७)। २ मारिया स्त्री [ मारिका ] वाद्य-विशेष (राय ४६)। देखो सुसुमार।

सुसुज्ज पुंन [ सुसूर्य ] एक देव-विमान (सम १५)।

सुसुमार पुं [ सुसुमार ] जलचर जन्तु की एक जाति (जी २०)। देखो सुसुमार।

सुसुयंथ वि [ सुसुगन्ध ] १ अत्यन्त सुगन्धी (पउम ६, ४१; गडड)। २ पुं. अत्यन्त सुगन्धी (गडड)।

सुसुर देखो ससुर (धर्मवि ११४; सिरि ३३४; ३४५; ३४७; ६८८)।

सुसुहंकर पुं [ सुशुभङ्कर ] छन्द का एक भेद (पिग)।

सुसूर पुंन [ सुसूर ] एक देव-विमान (सम १०)।

सुसेण पुं [ सुसेण ] १ सुग्रीव का धनुष (सि ४, ११; १३, ८४)। २ एक मंत्री (विपा १, ४—पत्र ५४)। ३ भरत चक्रवर्ती का मंत्री (राज)।

सुसेणा स्त्री [ सुसेणा ] एक बड़ी नदी (ठा ५, ३—पत्र ३५१)।

सुसोह वि [ सुशोभ ] अच्छी शोभावाला (सुपा २७५)।

सुसोहिय वि [ सुशोभित ] शोभा-संपन्न, समलंकृत (उप ७२८ टी)।

सुस्स अक [ शुप् ] सूचना। सुस्से (सूत्र १, २, १, १६)। वक्र. सुस्संत (स १६६)।

सुस्समण पुं [ सुश्रमण ] उत्तम साधु (उप)।

सुस्सर वि [ सुस्वर ] सुन्दर आवाजवाला (सुपा २०६)। देखो सुसर।

सुस्सरा स्त्री [ सुस्वरा ] गीतरति तथा गीतयश नाम के गन्धर्वों की एक एक अग्रमहिषी का नाम (ठा ४, १—पत्र २०४; इक)।

सुस्सार वि [ सुसार ] सार-युक्त (भवि)।

सुस्सावग } देखो सुसावग (उप; आ १२)।  
सुस्सावय }

सुस्सील देखो सुसील (सुपा ११०; ५०८)।

सुसुय देखो सुसुअ (राज)।

सुस्सुयाय अक [ सुसुकाय, सुस्कारय ] सु सु आवाज करना, सूत्कार करना। संक्र. सुस्सुयाइत्तां (उत्त २७, ७)।

सुस्सू स्त्री [ श्वश्रू ] सासू (वृह २)।

सुस्सस सक [ शुश्रूप् ] सेवा करना। सुस्ससइ (उप; महा)। वक्र. सुस्ससंत, सुस्ससमाण (कुलक ३४; भग; श्रौप)। हेक. सुस्ससिटुं (शौ) (मा ३६)।

सुस्ससअ वि [ शुश्रूपक ] सेवा करनेवाला (कप्प)।

सुस्ससण न [ शुश्रूपण ] सेवा, शुश्रूपा (कुप्र २४७; रत्न २१)।

सुस्ससणया } स्त्री [ शुश्रूपणा ] ऊपर देखो  
सुस्ससणा } (उत्त २६, १; श्रौप; राया १, १३—पत्र १७८)।

सुस्ससा स्त्री [ शुश्रूपा ] ऊपर देखो (सुपा १२७)।

सुह देखो सोह = शुम्। सुहइ (वज्जा १४; पिग)।

सुह सक [ सुखय ] सुखी करना। सुहइ (पिग), सुहेदि (शौ) (अभि ८६)।

सुह देखो सुभ (हे ३, २६; ३०; कुमा; सुपा ३६०; कम्म १, ५०)। अ वि [ द ]

मंगलकारी (कुमा)। १ कम्मिय वि [ कम्मिक ] पुण्यशाली (भवि)। २ काम वि [ काम ] मङ्गल की चाहवाला (सुपा ३२६)। ३ गर वि [ कर ] मङ्गल-जनक (कुमा)। ४ णामा स्त्री [ नामा ] पत्नी की पाँचवीं, दसवीं तथा पनरहवीं रात्रि-तिथि (सुज्ज १०, १५)। ५ स्थि वि [ स्थिन् ] १ शुभेच्छक (भग)। २ शुभ अर्थवाला (राया १, १—पत्र ७४)। ३ द देखो अ (कुमा)।

सुह न [ सुख ] १ आनन्द, चैन, मजा। २ आराम, शान्ति (ठा २, १—पत्र ४७; ३, १—पत्र ११४; भग; स्वप्न २३; प्रासू १३३; हे १, १७७; कुमा)। ३ निर्वाण, मुक्ति। ४ वि. जितेन्द्रिय (विसे ३४४३; ३४४४)। ५ सुख-प्रद, सुख-जनक (राया १, १२—पत्र १७४; आचा; कम्म १, ५१)। ६ अशुक्ल (राया १, १२)। ७ सुखी (हे ३, १६)। ८ अ वि [ द ] सुख-दायक (सुर २, ६५; सुपा ११२; कुमा)। ९ इत्तअ वि [ चत् ] सुखी (पि ६००)। १० कर वि [ कर ] सुख-जनक (हे १, १७७)। ११ कामि वि [ कामिन् ] सुखाभिलाषी (श्रौव ११६)। १२ स्थि वि [ स्थिन् ] वही अर्थ (आचा)। १३ द वि [ द ] सुख-दाता (वे १०३; कुमा)। १४ दाय वि [ दाय ] वही (पउम १०३, १६२)। १५ फंस वि [ स्फर्श ] कोमल (पाप्र)। १६ यर देखो कर (हे १, १७७; कुमा; सुपा ३)। १७ संभा स्त्री [ सन्ध्या ] सुख-जनक सायंकाल (कप्प)। १८ ववह वि [ ववह ] १ सुख-जनक (आ २८; उप; सं ६७)। २ पुंन. एक पर्वत-शिखर (ठा २, ३—पत्र ८०)। ३ सण न [ सण ] आसन-विशेष, पालकी (सुर २, ६०; सुपा २७८; कप्प)। ४ सिया स्त्री [ सिका ] सुख से बैठना, सुखी स्थिति (प्रासू ८५)।

सुहउत्थिआ स्त्री [ दे ] दूती (दे ८, ६)।

सुहंकर वि [ सुखकर ] सुख-कारक (सिरि ३६; कुमा)।

सुहंकर वि [ शुभकर ] १ शुभ कारक (कुमा)। २ पुं. एक वणिक् का नाम (उप ५०७ टी)।

सुहंभर वि [ सुखभर ] सुखी (गडड)।



सुहग देखो सुभग (खण ४०; गा ६; नाट—मालवि २८) ।  
 सुहड पुं [सुभट] गोडा (सुर २, २६; कुमा; प्रासू ७४; सण) ।  
 सुहड वि [सुहट] अच्छी तरह हरण किया हुआ (दस ७, ४१) ।  
 सुहस्थ वि [सुहस्त] ? अच्छा हाथवाला, हाथ की लघुतावाला, हाथ से शीघ्र-शीघ्र काम करते में समर्थ (से १२, ५५) । २ दाता, दानशील (भवि) ।  
 सुहस्थि पुं [सुहस्तिन्] ? गन्ध-हस्ती (णाय १, १—पत्र ७४; उवा) । २ एक जैन महापि (कप्प; पडि) ।  
 सुहद न [सौहार्द] ? स्नेह । २ मित्रता (भवि) ।  
 सुहम न [सूक्ष्म] ? फूल, पुष्प (दसनि १, ३६) । २ देखो सण्ह; सुहुम = सूक्ष्म (हे २, १०१; चंड) ।  
 सुहम्म पुं [सुधर्मन्] ? भगवान् महावीर का पट्टवर शिष्य (विपा १, १—पत्र १) । २ वारहवें जिनदेव का प्रथम शिष्य (सम १५२) । ३ एक यक्ष का नाम (विपा १, १—पत्र ४; १, २—पत्र २१) । ४ सामि पुं [स्वामिन्] भगवान् महावीर का पट्टवर शिष्य (भग) । देखो सुधम्म ।  
 सुहम्म<sup>०</sup> देखो सुहम्मा । ५ वइ पुं [पति] इन्द्र (महा) ।  
 सुहम्ममाण वि [सुहन्यमान्] जो अच्छी तरह मारा जाता हो वह (पि ५४०) ।  
 सुहम्मा वी [सुधर्मा] चमर आदि इन्द्रों की सभा, देव-सभा (सम १५; भग) ।  
 सुहय देखो सुह-अ = सुख-द, शुभ-द ।  
 सुहय देखो सुभग (गडड; सण; हेका २७२; कुमा) ।  
 सुहय वि [सुहय] अच्छी तरह जो मारा गया हो वह (कुप्र २२६) ।  
 सुहर वि [सुभर] सुख से भरने योग्य (दस ८, २५) ।  
 सुहरअ देखो सुहराय (पइ) ।  
 सुहरा वी [द. सुगृह] पति-विशेष, सुघरी (से ८, ३६) ।

सुहराय पुं [दे] ? वेरया का घर । २ चटक, गैरैया पक्षी (दे ८, ५६) ।  
 सुहली वी [दे] सुख, आनन्द (दे ८, ३६) ।  
 सुहव देखो सुभग (वज्जा ६६; संसि ६) ।  
 वी. ० (प्राक ३७) ।  
 सुहा अक [सु + भा] अच्छा लगना, 'न सुहाइ गोमईए सासू' (कुप्र ३५२) ।  
 सुहा देखो छुहा = सुवा (स २८२; कुमा; सण) । १ कम्मंत न [कर्मन्त] चूने का कारखाना (आचा २, २, २, ६) । २ हार पुं [हार] देव, देवता (स ७५५) ।  
 सुहा अक [सुखाय] ? सुख पाना ।  
 सुहाअ } २ सकं. सुखी करना । सुहाइ, सुहाव सुहाअइ, सुहावइ, सुहावेइ (भवि; गा ६१७; पि ५५८; से १२, ८६; वज्जा १६४; भवि; उव) । वक. सुहाअंत (से १, २८; नाट—रत्ना ६१) ।  
 सुहाव देखो सहाव = स्वभाव (गा ५०८; वज्जा १०) ।  
 सुहावण वि [सुखायन] सुख-जनक (सण; भवि) ।  
 सुहावय वि [सुखायक] ऊपर देखो (वज्जा ४६४; भवि) ।  
 सुहासिय वि [सुभाषित] ? सम्यग् उक्त (पणह १, १—पत्र १) । २ न. सुन्दर वचन, सूक्त (स ७६१; सुपा ५१४) ।  
 सुहि वि [सुखिन्] सुख-युक्त (सुपा ३१२; ४३१) ।  
 सुहि पुं [सुहद] मित्र, दोस्त (ठा ४, सुहिअ } ३—पत्र २४३; णाय १, २—पत्र ६०; उत २०, ६; सुर ४, ७६; सुपा १०७; ४१६; प्रयौ ३६; सुर ३, १५४; भवि) ।  
 सुहिअ वि [सुखित] सुखी, सुख-युक्त (से २, ८; गा ४१८; कुप्र ४०६; उव; कुमा) ।  
 सुहिअ वि [सुहित] ? वृत्त (से २, ८) । २ सुन्दर हितवाला (धर्म २) ।  
 सुहिट्ट वि [सुहट्ट] अति हर्षित (उप ७२८ टी) ।  
 सुहिर देखो सुसिर: 'अवनामंतो पुहहि अंतो सुहिरं व चरणाघाएहि' (धर्मवि १२४; रंभा) ।

सुहिरण्णा वी [सुहिरणया, णियन्ना] सुहिरणिया } वनस्पति-विशेष, पुष्प-प्रधान सुहिरणिया } वृक्ष-विशेष (राय ३१; राज; पणह १७—पत्र ५२६) ।  
 सुहिरिमण वि [सुहीमनस्] अत्यन्त लज्जालु, अतिशय शरमिन्दा (सूत्र १, ४, २, १७; राज) ।  
 सुहिल्लिया देखो सुहेलि: 'सुहिल्लियं अट्ठियं रसं सुणओ' (भत्त १४२) ।  
 सुही वि [सुधी] पंडित, विद्वान् (तिरि ४०) ।  
 सुहुम वि [सूक्ष्म] ? वारीक, अत्यन्त छोटा । २ तीक्ष्ण (हे १, ११८; २, ११३; कुमा; जी १४) । ३ पुं. भारत वर्ष के एक भावी कुलकर पुत्र (सम १५३) । ४ एकैन्द्रिय जीव-विशेष (ठा ८; कम्म ४, २; ५) । ५ न. कर्म-विशेष (सम ६७) । ६ संपराग, संपराय पुं [संपराय] ? चारित्र-विशेष (ठा ५, २—पत्र ३२२) । २ दशवों गुण-त्यानक (सम २६) । देखो सण्ह, सुहम = सूक्ष्म ।  
 सुहुय वि [सुहुत] अच्छी तरह होम किया हुआ (उप २८० टी; कप्प; औप) ।  
 सुहेलि वी [दे. सुखकेलि] सुख, आनन्द, मजा (दे ८, ३६; पात्र; गा १०८; २११; २६१; २८८; ३६८; ५५६; ८६४; स ७२) ।  
 सुहेसि वि [सुखैपिन्] सुखामिलापी (सुपा २२७) ।  
 सू अ. निन्दा-सूचक अव्यय (नाट) ।  
 सूअ सक [सूचय] ? सूचना करना । २ जानना । ३ लक्ष करना । सूएइ; सूअति; सूएमो (विसे १३६८; स २४८; गडड; पिड ४१७) । कर्म. सूहजइ (गा ३२६) । वक. सूयंत, सूययंत (गडड; स ३६६) । कवक. सूइजंत (वेदय ६०५) । क. सूएअव्व (से १०, २८) ।  
 सूअ पुं [सूद] रसोदया (महा) ।  
 सूअ पुं [सूत] ? सारथि, रथ हाँकनेवाला (पात्र) । २ वि. प्रसूत, जिसने जन्म दिया हो वह; 'सु(?)यगोव्व अदूरए' (सूत्र १, ३, २, ११) । ३ गड पुं [कृत] दूसरा जैन अंग-ग्रन्थ (सूअनि २) ।

सूअ पुं [शुक] धान्य आदि का तीक्ष्ण अग्र भाग (गडड; गा ५६८) ।

सूअ वि [शून] फुला हुआ, सूजनवाला; 'सूय-युहं सूयहृत्वं सूयपायं' (विवा १, ७—पत्र ७३) ।

सूअ पुं [सूप] दाल (पत्र ६१, टी; उवा; परह २, ३—१२३; सुपा ५७) । 'गार, 'चार, 'र पुं [कार] रसोइया (स १७; कुप्र ६६; ३७; श्रावक ६३ टी) । 'रिणी ली [कारिणी] रसोई बनानेवाली ली (पठम ७७, १०६) ।

सूअ देखो सुत्त = सूत्र । 'गड पुंन [कृत] दूसरा जैन अंग-ग्रन्थ; 'आयारो सूयगडो' (सूत्र २, १, २७; सम ?) ।

सूअ वि [सूचक] ? सूचना करनेवाला  
सूअक } (वेणी ४५; आ ११; नुर २,  
सूअग } २२६) । २ पुं. पिशुन, खल, दुर्जन  
(परह १, २—पत्र २८) । ३ गुप्त दूत,  
जानूस (प्राप्र) ।

सूअग } न [सूतक] सूतक, जनन और मरण  
सूअय } की अशुद्धि (पंचा १३, ३८; वव  
१) ।

सूअण न [सूचन] सूचना (उव; सुर २,  
२३३) ।

सूअर पुं [शूकर] सूअर, बराह (उवा; विपा  
१, ३—पत्र ५३; प्रयो ७०) । 'वह पुं  
[वह] अनन्तकाय वनस्पति-विशेष (पत्र ४;  
आ २०) ।

सूअरिअ वि [दे] यन्त्र-पीड़ित (दे ८, ४१  
टी) ।

सूअरिया } ली [दे] यन्त्र-पीड़ना (सुर १३,  
सूअरी } १५७; दे ८, ४१) ।

सूअल न [दे] क्रिया, धान्य का तीक्ष्ण  
अग्र भाग (दे ८, ३८) ।

सूआ ली [सूचा] सूचन, सूचना (पिड  
४३७; उपयं ५०; सुप्रति २) । 'कर वि  
[कर] सूचक (उप ७६८ टी) ।

सूआ } ली [सूति] प्रसव, प्रसूति, जन्म  
सूइ } (पउम २६, ८५; १, ६१; सुपा  
२३) । 'कर्म न [कर्मन्] प्रसव-क्रिया (सुर  
१०, १; सुपा ४०) । 'हर न [गृह] प्रसूति-  
गृह (पउम २६, ८५) ।

सूइ ली [सूचि] देखो सूई (आचा; तम  
१४६; राय २७) ।

सूइअ वि [सूचित] जिसकी सूचना की गई  
हो वह (महा) । २ उक्त, कथित (पाप्र) ।  
३ व्यञ्जनादि-युक्त (खाद्य) (दस ५, १, ६८) ।

सूइअ वि [सूत] प्रसूत, जिसने जन्म दिया  
हो वह, व्यायः; 'साएँ सूइअं गावि' (दस  
५, १, १२) ।

सूइअ पुं [सूचिक] दरजी (कुप्र ४०१) ।

सूइअ पुं [दे] चण्डाल (दे ८, ३६) ।

सूइय न [सुप्र] निद्रा; 'सिजं अत्यरिऊण  
अलियसूइयं काऊण अचर्द्धति' (महा) ।

सूइय वि [दे. सूप्य, सूपिक] भोजा हुआ  
(खाद्य); 'अवि सूइयं वा सुकं वा' (आचा) ।

सूइया ली [सूतिन्ना] प्रसूति-कर्म करनेवाली  
ली (सन्मत्त १४५) ।

सूई ली [सूची] कपड़ा सीने की सलाई, सूई  
(परह १, ३—पत्र ४४; गा ३६४; ५०२) ।

२ परिमाण-विशेष, एक अंगुल लम्बी एक  
प्रदेशवाली अंशो (अयु १५८) । ३ दो तल्लों

के जोड़ने के काम में आती एक तरह की  
पतली कोल (राय २७; ८२) । 'फलय न

[फलक] तल्ले का वह हिस्सा, जहाँ सूची-  
कोलक लगाया गया हो (राय ८२) । 'मुह पुं

[मुख] ? पत्ति-विशेष (परह १, १—पत्र  
८) । २ द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (परह  
१—पत्र ४४) । ३ न. जहाँ सूची-कोलक

तल्ले का छेद कर भीतर घुसता है उसके  
समीप की जगह (राय ८२) ।

सूई ली [दे] मंजरी (दे ८, ४१) ।

सूई देखो सूइ = सूति (सुपा २६५) ।

सूइ सक [भञ्ज, सूइ] भांगना, तोड़ना,  
विनाश करना । सूइइ (हे ४, १०६) । कर्म.  
सूइजंतु (परह १, २—पत्र २६) ।

सूइण न [सूइन] ? भजन, विनाश (गडड) ।  
२ वि. विनाशक (पत्र २७१) ।

सूण वि [शून] सूजा हुआ, सूजन से फुला हुआ  
(पउम १०३, १४८; गा ६३६; स ३७१;  
४८०) ।

सूण } ली [सूना] वध-स्थान (निर १, १;  
सूणा } मा ३४; कुप्र २७६) । 'वइ पुं  
[पति] कसाई (दे २, ७०) ।

सूण } ली [सूना] वध-स्थान (निर १, १;  
सूणा } मा ३४; कुप्र २७६) । 'वइ पुं  
[पति] कसाई (दे २, ७०) ।

सूण } ली [सूना] वध-स्थान (निर १, १;  
सूणा } मा ३४; कुप्र २७६) । 'वइ पुं  
[पति] कसाई (दे २, ७०) ।

सूणिय वि [शूनिक] ? सूजन का रोगवाला,  
जिसका शरीर सूज गया हो वह । २ न.  
सूजन (आचा) ।

सूणु पुं [सूनु] पुत्र, लड़का (कुप्र ३१६) ।

सूतक देखो सूअय = सूतक (वव १) ।

सूप देखो सूअ = सूप (परह २, ५—पत्र  
१४८) ।

सूभग देखो सूभग; 'सूभग दूभगनामं सूसर  
तह दूसरं चैव' (धर्मसं ६२०; श्रावक २३) ।

सूभग देखो सोभग (पिड ५०२) ।

सूमाल देखो सुउमाल (परह १, ४—पत्र  
७८; णाया १, १—पत्र ४७; १, १६—पत्र  
२००; कण; नुर १३, ११८; कुप्र ५५) ।

सूर सक [भञ्ज] तोड़ना, भांगना । सूरइ  
(हे ४, १०६) ।

सूर वि [शूर] ? पराक्रमी, वीर (जा ४,  
३—पत्र २३७; कण; सुपा २२२; ४१२;  
प्रासू ७१) । २ पुं. एक राजा (सुपा ६२२) ।

३ पुंन. एक देव-विमान (देवेन्द्र १४३) ।  
'सेण पुं [सेन] एक भारतीय देश, जिसकी

प्राचीन राजधानी मथुरा थी (विचार ४६;  
पउम ६८, ६६; ती १४; विक्र ६६; सत्त  
६७ टी) । २ ऐरवत वयं के एक भावी जिन-  
देव (सम १५४) । ३ एक जैनाचार्य (उप  
७२८ टी) । ४ भगवान् आदिनाय का एक  
पुत्र (ती. १४) ।

सूर पुं [सूर, सूर्य] ? सूर्य, रवि (हे २,  
६४; ठा २, ३—पत्र ८५; उव; सुपा २२२;  
६२२; कण; कुमा) । २ सतरहवें जिन-देव  
का पिता (सम १५१) । ३ इक्ष्वाकु-वंश का

एक राजा (पउम ५, ६) । ४ एक लंका-  
पति (पउम ५, २६३) । ५ एक द्वीप का  
नाम (सुज्ज १६) । ६ एक राजा (सुपा  
५५६) । ७ द्यन्त का एक भेद (पिग) ८

पुंन. एक देव-विमान (सम १०) । 'अंत,  
'कंत पुं [कान्त] ? मणि-विशेष (से ६,  
५०; पउम ३, ७५; परह १—पत्र २६;  
उत्त ७७) । २ पुंन. एक देव-विमान (देवेन्द्र  
१४४; सम १०) । 'कूड पुंन [कूट] एक

देव-विमान—देव-भवन (सम १०) । 'उभय  
पुंन [ध्वज] एक देव-विमान (सम १०) ।

सूर पुं [सूर, सूर्य] ? सूर्य, रवि (हे २,  
६४; ठा २, ३—पत्र ८५; उव; सुपा २२२;  
६२२; कण; कुमा) । २ सतरहवें जिन-देव  
का पिता (सम १५१) । ३ इक्ष्वाकु-वंश का

एक राजा (पउम ५, ६) । ४ एक लंका-  
पति (पउम ५, २६३) । ५ एक द्वीप का  
नाम (सुज्ज १६) । ६ एक राजा (सुपा  
५५६) । ७ द्यन्त का एक भेद (पिग) ८

पुंन. एक देव-विमान (सम १०) । 'अंत,  
'कंत पुं [कान्त] ? मणि-विशेष (से ६,  
५०; पउम ३, ७५; परह १—पत्र २६;  
उत्त ७७) । २ पुंन. एक देव-विमान (देवेन्द्र  
१४४; सम १०) । 'कूड पुंन [कूट] एक

देव-विमान—देव-भवन (सम १०) । 'उभय  
पुंन [ध्वज] एक देव-विमान (सम १०) ।

सूर पुं [सूर, सूर्य] ? सूर्य, रवि (हे २,  
६४; ठा २, ३—पत्र ८५; उव; सुपा २२२;  
६२२; कण; कुमा) । २ सतरहवें जिन-देव  
का पिता (सम १५१) । ३ इक्ष्वाकु-वंश का

एक राजा (पउम ५, ६) । ४ एक लंका-  
पति (पउम ५, २६३) । ५ एक द्वीप का  
नाम (सुज्ज १६) । ६ एक राजा (सुपा  
५५६) । ७ द्यन्त का एक भेद (पिग) ८

पुंन. एक देव-विमान (सम १०) । 'अंत,  
'कंत पुं [कान्त] ? मणि-विशेष (से ६,  
५०; पउम ३, ७५; परह १—पत्र २६;  
उत्त ७७) । २ पुंन. एक देव-विमान (देवेन्द्र  
१४४; सम १०) । 'कूड पुंन [कूट] एक

दीव पुं [दीव] द्वीप-विशेष (इक) । दीव पुं [दीव] आगनि उत्तपणो-काल में होने-वाले नारतवर्ष के दूसरे जिनदेव (सम १५३) । पञ्चति वी [पञ्चति] एक जैन उपाङ्ग-ग्रंथ (ठा ३, २—पत्र १२६) । परिवेत्त पुं [परिवेत्त] नेव आदि से होता सूर्य का बल-याकार मंडल (श्रु १२०) । पञ्चय पुं [पञ्चय] पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) । पाया वी [पाया] सूर्य के किरण से होनेवाली रसाई (कुप्र ६९) । प्पभ पुं [प्रभ] एक देव-विमान (सम १०) । प्पभा, प्पहा वी [प्रभा] ? सूर्य की एक अग्र-नहिषी (इक: साया २—पत्र २५२) । २ ग्यास्वें जिनदेव की दोसा-शिविका (सम १५१) । ३ आठवें जिनदेव की दोसा-शिविका (विचार १२९) । मड्डिया वी [मड्डिया] वनसति-विशेष (राय ७६) । मालिया वी [मालिया] आनरण-विशेष (श्रीप) । लेस पुं [लेस] एक देव-विमान (सम १०) । वक्रय न [वक्रय] आनुपण-विशेष (श्रीप) । वर पुं [वर] ? एक द्वीप । २ एक समुद्र (सुज्ज १९) । वरोभास पुं [वरोभास] ? द्वीप-विशेष । २ समुद्र-विशेष (सुज्ज १९) । वही वी [वही] लता-विशेष (पण १—पत्र ३३) । वेग पुं [वेग] एक राज-कुमार (उप १०३१ टी) । विंग पुं [विंग] एक देव-विमान (सम १०) । सिद्ध पुं [सिद्ध] एक देव-विमान (सम १०) । सिरो वी [श्री] सातवें चक्रवर्ती की वी (सम १५२) । सुअ पुं [सुअ] शनैस्वर-ग्रह (हाट—वृच्छ १९२) । भ पुं [भ] एक देव-विमान (सम १४; पत्र २६७) । वित्त पुं [वित्त] एक देव-विमान (सम १०) । देवी सुज ।

सूरंग पुं [दे] प्रदीप, दीपक (दे ८, ४१; पत्र ५) ।

सूरंगय पुं [सुराङ्गय] एक राजा (उप १०३१ टी) ।

सूरण पुं [दे. सुरण] कन्द-विशेष, सूरज, शील (दे ८, ४१; पण १—पत्र ३६, उत ३६ २६; पंचा ५, २०) ।

सूरुय पुं [दे] दिन, दिवस (दे ८, ४२; पत्र ५) ।

सूरुहि पुं [दे] ? मध्याह्न, दुपहर का समय (दे ८, ५७; पत्र ५) । २ कौट-विशेष, मशक के समान आकृतिवाला कौट (दे ८, ५७) । ३ तुण-विशेष, ग्रामणी नामक तुण (दे ८, ५७; जीव ३, ४; राय) ।

सूरि पुं [सुरि] आचार्य (जी १; सण) ।

सुरिअ वि [भम] नाँगा हुआ (कुना) ।

सुरिअ देवी सुज्ज (हे २, १०७; सम ३६; नग: उप ७२८ टी) । कंत पुं [कान्त] प्रदेश-नामक राजा का पुत्र (नग ११, ६—पत्र ५१४; कुप्र १४६) । कंता वी [कान्ता] प्रदेशी राजा की पत्नी (कुप्र १४६) । पाग पुं [पाग] सूर्य के ताप से होनेवाली रसाई (कुप्र ७०) । वी. गा (कुप्र ६८) । लेसा वी [लेसा] सूर्य की प्रभा (सुज्ज ५—पत्र ७६) । भ पुं [भ] ? प्रथम देव लोकका एक देव (राय १४; वनवि ६) । २ पुं. एक देव-विमान । ३ न. सुयोन देव का सिंहासन (राय १४) । वित्त पुं [वित्त] मंत्र पर्वत (सुज्ज ५; इक) । वरण पुं [वरण] मंत्र पर्वत (सुज्ज ५; इक) ।

सूरिल पुं [दे] स्वयुर पदा (?), 'महंत ने सश्रोवणं ति चाहिङ्गण सुखिलस्त समागधो चयं' (स ५१०) ।

सूरिस देवी सुजरिस (हे १, ८) ।

सूरुत्तरावडिसग पुं [सूरुत्तरावतंसक] एक देव-विमान (सम १०) ।

सूरुहि देवी सूरुहि (राय ८० टी) ।

सूरुद पुं [सूरुद] एक समुद्र (सुज्ज १९) ।

सूरुदय न [सूरुदय] नगर-विशेष (पउम ८, १२६) ।

सूरुवराग पुं [सूरुवराग] सूर्य-ग्रहण (नग) ।

सूरु पुं [शूल] ? लोहे का सुतोक्ष्य कांटा, शूली (विपा १, ३—पत्र ५३; श्रीप) । शूल-विशेष, शिखल (पण १, १—पत्र १८; कुमा) । ३ रोग-विशेष (प्रा १०५) । ४ बहल आदि का तीक्ष्ण अग्र भागवाला कांटा

(कुप्र ३७) । पुं. व. देश-विशेष (पउम ६८, ६५) । पाणि पुं [पाणि] वन-विशेष (कमं ५) । धर पुं [धर] शिव, महादेव (पिन) ।

सूरुच्छ न [दे] पत्तन, छोटा तामाव (दे ८, ४२) ।

सूरुधारी वी [दे] नरडी, पार्वती (दे ८, ४२) ।

सूला वी [शूला] शूली, सुतोक्ष्य लोह-कांटा (गा ६४; उप ३३३ टी; वनवि १३७) । इय वि [चित्त, तिग] शूली पर चढ़ाया हुआ (साया १, ६—पत्र १५७; १६३; राय १३४) ।

सूला वी [दे] वेरवा, वाराणसा (दे ८, ४१) ।

सूलि वि [शूलिन्] ? शूल-रोगवाला; जिह विदलं सुलोणं (वि ३) । २ पुं शिव, महादेव (पाप्र) ।

सूलि वी [शूलिका] शूली, जिसपर बन्ध को चढ़ाया जाता है (पण १, १—पत्र ८) ।

सूय पुं [सूय] दाल (उवा; शोध ७१५; चार ६; विड ६२४; पंचा १०, ३७) । यार, र पुं [यार] रसाईया, रसाई बनानेवाला नौकर (पउम ११३, ७; सुर १६, ३८; उप ३०२) ।

सूस अक [शुप्] सूखना । सूसइ, सूसंति, सूसइरे (हे ५, २३६; प्राह ६८; कुमा ३७४; हे ३, १४२) ।

सूसर वि [सुस्वर] ? सुन्दर आवाजवाला (सुर १६, ४६) । २ न. नामकर्म का एक नेद, जिससे सुन्दर स्वर की प्राप्ति हो वह कर्म (धर्मसं ६२०; श्रावक २३; कम्म २, २२) । परिवादिणी वी [परिवादिनी] एक तरह की बीया (पण २, ५—पत्र १४६) ।

सूसस वि [सुच्छवास] ऊर्ध्व स्वासवाला (हे १, १५७; कुमा) ।

सूसिय वि [शोपित] सुखाया हुआ (सु १५, २४८) ।

सूसुअ वि [सुश्रुत] १ अच्छी तरह सुना हुआ । २ अच्छी तरह ज्ञात (वज्जा १०६) ।  
३ पुं. वैद्यक ग्रन्थ-विशेष (वज्जा १०६) ।

सूहअ } देखो सुभग (संक्षि २०; हे १,  
सूहव } ११३; १६२) ।

सें देखो सेअ = श्वेत । °वड पुं [°पट]  
श्वेताम्बर जैन (सम्मत्त १३७) ।

से अ [दे] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ वाक्य का उपन्यास । २ प्रश्न (भग १,  
१; उवा) । ३ प्रस्तुत वस्तु का परामर्श  
(उत्त २, ४०; जं १) । ४ अनन्तरता (ठा  
१०—पत्र ४६५) ।

से } अक [शी] सोना । सेइ, सेअइ  
सेअ } (पड) ।

सेअ सक [सिच] सीचना । सेअइ (हे  
४, ६६) ।

सेअ पुं [दे] गणपति, गणेश (दे ८, ४२) ।

सेअ पुं [सेय] १ कदम, कांदो, पंक (सूअ  
२, १, २; णाया १, १—पत्र ६३) । २  
एक अधम मनुष्य-जाति; 'चंडाला मुट्टिया  
सेया जे अन्ने पावकम्मियो' (ठा ७—पत्र  
३६३) ।

सेअ पुं [स्वेद] पसीना (गा २७८; दे ४,  
४६; कुमा) ।

सेअ पुं [सेक] सेचन, सीचना (सै ६५; गा  
७६६; हेका ६६; अग्नि ३३) ।

सेअ न [श्रेयस्] १ शुभ, कल्याण (भग) ।  
२ धर्म । ३ मुक्ति, मोक्ष (हे १, ३२) । ४  
वि. अति प्रशस्त, अतिशय शुभ; 'इय संज-  
मोवि सेओ' (पंचा ७, १४; कुमा; पंच ६६) ।  
५ पुं. अहोरात्र का दूसरा मुहूर्त (सुज्ज १०,  
१३) ।

सेअ वि [सैज] सकम्प, कम्प-युक्त (भग ५,  
७—पत्र २३४) ।

सेअ वि [श्वेत] १ शुक्ल, सफेद (णाया १,  
१—पत्र ५३; अग्नि ३३; उव) । २ पुं.  
एक इन्द्र, कुम्भंड-निकाय के दक्षिण दिशा  
का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ३ शक्र की  
नट-सेना का अधिपति (इक) । ४ आमल-  
कल्पा नगरी का एक राजा, जिसने भगवान्  
महावीर के पास दीक्षा ली थी (ठा ८—पत्र  
११७

४३०; राय ६) । °कंठ पुं [°कण्ठ]  
भूतानन्द नामक इन्द्र के महिप-सैन्य का  
अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२; इक) ।  
°पड, °वड पुं [°पट] श्वेताम्बर जैन, जैन  
का एक संप्रदाय (सुपा ६४१; विसे २५८५;  
धर्मसं ११०६) ।

सेअ वि [एष्यत्] आगामी, भविष्य; 'पभू  
एणं भंते केवली सेयकालंसि वि तेसु चेव  
आगासपदेसेसु हर्था वा जाव आगाहिताएणं  
चिद्धित्तए' (भग ५, ४—पत्र २२३; ठा  
१०—पत्र ४६५; अणु २१) । °ल पुं  
[°काल] भविष्यकाल (भग; उत्त २६, ७१) ।

सेअंकर पुं [श्रेयस्कर] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष  
(ठा २, ३—पत्र ७८) ।

सेअंकार पुं [श्रेयस्कार] श्रेयः-करण, 'श्रेयस्'  
का उच्चारण (ठा १०—पत्र ४६५) ।

सेअंवर पुं [श्वेताम्बर] १ एक जैन संप्रदाय  
(सं २; सम्मत्त १२३; सुपा ५६६) । २ न.  
सफेद वस्त्र (पज्ज ६६, ३०) ।

सेअंस पुं [श्रेयांस] १ एक राज-कुमार (धण  
१५) । २ चतुर्थं वासुदेव तथा बलदेव के पूर्व  
जन्म के धर्म गुरु—एक जैन मुनि (सम  
१५३; पज्ज २०, १७६) । देखो सेज्जंस ।

सेअंस देखो सेअ = श्रेयस् (ठा ४, ४—पत्र  
२६५) ।

सेअण न [सेचन] सेक, सीचना (कुमा; अग्नि  
४७; णाया १, १३—पत्र १८१; सुपा  
३०६) । °वह पुं [°पथ] नोक (आचा २,  
१०, २) ।

सेअणग } पुं [सेचनक] १ राजा श्रेणिक  
सेअणय } का एक हाथी (उप २६४ टी;  
णाया १, १—पत्र २५) । २ वि. सींचने-  
वाला (कुमा) । देखो सेचणय ।

सेअविय वि [सेवनीय] सेवा-योग्य, ए  
सिक्खतो सेयवियस्स किंचि' (सूअ १, ५, १,  
४) ।

सेअविया वी [श्वेतविका] केकयाधं देश की  
प्राचीन राजधानी (विचार ५०; पव २७५;  
इक) ।

सेआ वी [श्वेतता] सफेदपन (सुज्ज १, १) ।  
सेआ देखो सेवा (नाट—चैत ६२) ।

सेआल देखो सेवाल = शैवाल (से २, ३१) ।  
सेआल देखो सेअ-ल = एष्यत्-काल ।

सेआल पुं [दे] १ गाँव का मुखिया । २  
सांनिव्य करनेवाला यक्ष आदि (दे ८, ५८) ।  
३ कृपक, खेती करनेवाला गृहस्थ (पात्र) ।

सेआली वी [दे]-दूर्वा, दूव, दूम (दे ८, २७) ।

सेआलुअ पुं [दे] मनौती की सिद्धि के लिए  
उत्सृष्ट वैल (दे ८, ४४) ।

सेइअ त [स्वेदित] पसीना (भवि) ।

सेइआ } वी [सेतिका] परिमाण-विशेष,  
सेइगा } दो प्रकृति की एक नाप (तंडु २६;  
उप पृ ३३७; अणु १५१) ।

सेउ पुं न [सेतु] १ बाँध, पुल (से ६, १७;  
कुप्र २२०; कुमा) । २ आलवाल, कियारी,  
यावला । ३ कियारी के पानी से सींचने योग्य  
खेत (औप; णाया १, १ टी—पत्र १) ।  
४ मार्ग (औप; णाया १, १ टी—पत्र १;  
कप्प ८६) । °बंध पुं [°वन्ध] पुल बाँधना  
(से ६, १७) । °वह पुं [°पथ] पुलवाला  
मार्ग (से ८, ३८) ।

सेउ वि [सेवत्] सेचक, सिंचन करनेवाला  
(कप्प ८६) ।

सेउय वि [सेवक] सेवा-कर्ता (कप्प ८६) ।

सेंदूर देखो सिंदूर (प्राप्र; संक्षि ३) ।

सेंधव देखो सिंधव (विक्र ८६) ।

सेंभ देखो सिंभ (उव; पि २६७) ।

सेंभिय देखो सिंभिय (भग; पि २६७) ।

सेवाडय पुं [दे] चुटकी की आवाज (दे ८,  
४३) ।

सेचणय न [सेचनक] सिंचन, छिड़काव  
(मोह २७) । देखो सेअणय ।

सेचाण (अप) पुं [श्येन] छन्द-विशेष  
(पिंग) । देखो सेण = श्येन ।

सेच न [शैत्य] शीतपन, ठंडापन (प्राप्र) ।

सेज्जं देखो सेज्जा । °वड पुं [°पति] वसति-  
स्वामी गृहस्थ (पव ८४) ।

सेज्जंभव देखो सिज्जंभव (कप्प; दसनि १,  
१२) ।

सेज्जंस पुं [श्रेयांस] १ ग्यारहवें जिनदेव का  
नाम (सम ८८; कप्प) । २ एक राज-पुत्र,

जिसने भगवान् आदिनाथ को इशु-रस से प्रथम पारणा कराया था (कल्प; कुप्र २१२)।  
३ मार्गशीर्ष मास का लोकोत्तर नाम (सुत्र १०, १६)। ४ भगवान् महावीर का पिता; राजा सिद्धार्थ (आचा २, १५, ३)। देखो सिज्जंस, सेअंस = येयांस।

सेज्जंस देखो सेअंस = येयांस (आचम)।

सेज्जा बी [शय्या] १ सेज, विद्योना (सि १, ५७; कुमा)। २ मकान. घर, बसति, उपाश्रय (पव १५२; सुत्र १, १५)। ३ थर पुं [°तर] गृह-स्वामी, उपाश्रय का मालिक, साधु को रहने के लिए स्थान देनेवाला गृहस्थ (श्रौव २४२; पव ११२; पंचा १७, १७)। ४ वाल पुं [°पाल] शय्या का काम करनेवाला चाकर (सुपा ५८७)। देखो सिज्जा।

सेज्जारिअ न [दे] अन्दोलन, हिंडोले में झूलना (दे ८, ४३)।

सेडि पुं [दे. श्रेण्डिम्] गाँव का मुखिया, सेठ, महाजन (दे ८, ४२; सम ५१; णाया १, १—पत्र १६; उवा)।

सेडिय न [दे] तृण-विशेष (परण १—पत्र ३३)।

सेडिया बी [दे. सेटिका] सफेद मिट्टी, लड़ी (आचा २, १, ६, ३)।

सेडि बी [श्रेणि] देखो सेडी = येणी (सुर ३, १७; ५, १६६)।

सेडिया } देखो सेडिया (दस ५, १, ३४; सेडी } जो ३)।

सेडी बी [श्रेणी] १ पंक्ति (सम १४२; महा)। २ राशि (अणु)। ३ असंख्य योजन-कांडकोटी की एक नाप (अणु १७३)। देखो सेणि।

सेण पुं [श्येन] १ पक्षि-विशेष (पउम ८, ७६; दे ७, ८४; वै ७४)। २ विद्याधर-वरा का एक राजा (पउम ५, १५)।

सेण देखो सेष्ण; मण्णखरवइणो मण्णे मरंति नेणाई इदिममवाई (आरा ६०)।

सेणा बी [सेना] १ भगवान् संनवनायजी की माता (सम १५१)। २ लश्कर, सैन्य (कुमा)। ३ एक जैन साध्वी, जो महर्षि स्थूलभद्र की वहिन थी (कल्प; पडि)। ४ वह

लश्कर जिसमें ३ हाथी, ३ रथ; ६ घोड़े और १५ प्यादे हैं (पउम ५६, ५)। ५ णिय, णी, णीय पुं [°नी] सेना-पति, लश्कर का मुखिया; 'सेणाणियोवि ताहे घेतूण जिणोत्तरं सुरवइस्त' (पउम ३, ७७; सुपा ३००; धर्मवि ८४; पउम ६४, २०)। ६ सुह न [°मुख] वह सेना जिसमें ६ हाथी, ६ रथ, २७ घोड़े और ४५ प्यादे हैं (पउम ५६, ५)। ७ वइ पुं [°पति] सेना का मुखिया, सेना-नायक (कल्प; पउम ३७, २; सम २७; सुपा २५५)। ८ हिवइ पुं [°धिपति] वही पूर्वोक्त अर्थ (सुपा ७३)। सेणावच्च न [सैनापत्य] सेनापतिपन, सेना का नेतृत्व (कल्प; श्रौव)।

सेणि बी [श्रेणि] १ पंक्ति। २ समूह (महा)। ३ कुम्भकार आदि मनुष्य-जाति (णाया १, १—पत्र ३७)।

सेणिअ पुं [श्रेणिक] १ भगव देश का एक प्रख्यात राजा (णाया १, १—पत्र ११; ३७; ठा ६—पत्र ४५५; सम १५४; उवा; अंत; पउम २, १५; कुमा)। २ एक जैन मुनि (कल्प)।

सेणिआ बी [सेणिका] एक जैन मुनि-शाखा (कल्प)।

सेणिआ } बी [सेनिका] छन्द का एक  
सेणिका } मेद (पिग)।

सेणिग देखो सेणिअ (संश्लेष ३५)।

सेणिग पुं [सैनिक] लश्करी विपाही (स ३८१)।

सेणी बी [श्रेणी] देखो सेणि (महा; णाया १, १)।

सेण्ण देखो सिन्न = सैन्य (णाया १, ८—पत्र १४६; गड्ड)।

सेत्त देखो सित्त = सिक्त (कुप्र १६)।

सेत्त (अप) देखो सेअ = श्वेत (पिग)।

सेत्तुंज पुं [शत्रुञ्जय] एक प्रसिद्ध पर्वत (णाया १, १६—पत्र २२६; अंत)।

सेद देखो सेअ = स्वेद (दे ४, ३४; स्वप्न ३६)।

सेध देखो सेह = नेह (जीव २—पत्र ५२)।

सेन्न देखो सिन्न = सैन्य (हे १, १५०; कुमा; सण; सुर १२, १०५ टि)।

सेफ्फ } देखो सेम्ह (हे २, ५५; पड; कुमा;  
सेफ } प्राक २२)।

सेफ पुंन [शोफ] पुल्प-चिड, लिंग (प्राक १४)।

सेभालिआ बी [शोफालिका] लता-विशेष (हे १, २३६; प्राक १४)।

सेमुसी } बी [शोमुपी] मेघा, बुद्धि (राज;  
सेमुदी } उप पृ ३३३; हम्मोर १४, २२)।

सेन्ह पुंबी [श्लोष्मन्] कफ, सेम्हा गवई (प्राक २२; पि २६७)।

सेर वि [स्वैर] स्वच्छन्दी, स्वतन्त्र, स्वच्छ (स्वप्न ७७; विक्र ३७)।

सेर वि [स्मेर] विकल्पर (हे २, ७८; कुमा)।

सेर पुं [दे] सेर, परिमाण-विशेष (पिग)।

सेरंधी बी [सैरन्धी] बी-विशेष, अन्य के घर में रहकर शिल्प-कार्य करनेवाली स्वतन्त्र बी (कप्प)।

सेराह पुं [दे] अश्व की एक उत्तम जाति (सम्मत्त २१६)।

सेरिभ पुं [दे] धुयं वृषभ, गाड़ी का बैल (दे ८, ४४)।

सेरिभ देखो सेरिह (सुख ८, १३; दे ८, ४४ टी)।

सेरिय पुं बी [दे] वाद्य-विशेष, 'करडिअंम-सेरियहुक्कहि' (सण)।

सेरियय पुं [दे] गुल्म-विशेष (परण १—पत्र ३२)।

सेरिह पुं बी [सैरिभ] मैसा, महिप (गा १७२; ७४२; नाट—मृच्छ १३५)। बी. °ही (पात्र)।

सेरी बी [दे] १ लम्बी आकृति। २ भद्र आकृति (दे ८, ५७)। ३ रथ्या, मुहल्ला (तिरि ३१८)। ४ यन्त्र-निर्मित नर्तकी (राज)।

सेरीस पुंन [सेरीश] एक गाँव का नाम (ती ११)।

सेल पुं [शैल] १ पर्वत, पहाड़ (सि २, ११; प्राप्र; सुर ३, २२६)। २ पापाण, पत्थर (उप १०३१)। ३ न. पत्थरों का समूह (सि ६, ३१)। ४ कार पुं [°कार] पत्थर घड़ने-वाला शिल्पी, शिलावट (अणु १४६)। ५ गिह न [°गृह] पर्वत में बना हुआ घर (कल्प)। ६ जाया बी [°जाया] पार्वती

(रंभा) । त्थंभ पुं [स्तम्भ] पापाण का वंभा (कम्म १, १८) । पाल, चाल पुं [पाल] १ धरण तथा भूतानन्द नामक इन्द्रों का एक एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७; इक) । २ एक जैनेतर धर्मावलम्बी पुत्र्य (भग ७, १०—पत्र ३२३) । स न [स] वज्र (से ३, २७) । सिंहर न [शिखर] पर्वत का शिखर (कम्प) । सुआ वी [सुता] पार्वती (पात्र) ।

सेलन पुं [शैलक] १ एक राजपि (राया सेलय १, ५—पत्र १०४; १११) । २ एक यज्ञ (पि १५६; राया १, ६—पत्र १६४) । पुर न [पुर] एक नगर (राया १, ५) ।

सेलयय न [शैलकज] एक गोत्र (ठा ७—पत्र ३६०; राज) ।

सेला वी [शैल] तीसरी नरक-पृथिवी (ठा ७—पत्र ३८८; इक) ।

सेलाइच्च पुं [शैलादित्य] बलभीपुर का एक प्रसिद्ध राजा (ती १५) ।

सेलु पुं [शैलु] श्लेष्म-नाशक वृक्ष-विशेष (पण १—पत्र ३१) ।

सेल्लस पुं [दे] कितव, जुआड़ी (दे ८, २१) । सेलेय वि [शैलेय] पर्वत में उत्पन्न, पर्वतीय (धर्मवि १४०) ।

सेलेस पुं [शैलेस] मेरु पर्वत (विसे ३०६५) । सेलेसी वी [शैलेशी] मेरु की तरह निखल चाम्पावस्था, योगी की सर्वोत्कृष्ट अवस्था (विसे ३०६५; ३०६७; सुपा ६५५) ।

सेलोदाइ पुं [शैलोदायिन्] एक जैनेतर धर्मावलम्बी गृहस्थ (भग ७, १०—पत्र ३२३) ।

सेल्ल देवो सेल = शैल; 'न ह किञ्चइ ताण मणं सेल्लं मिव सलिलपूरेणं' (वजा ११२) ।

सेल्ल पुं [दे] १ मृग-शिशु । २ शर, वाण (दे ८, ५७) । ३ कुन्त, बर्छा (कुमा; हे ४, ३८७) ।

सेल्ल पुं [शैल्य] एक राजा (राया १, १६—पत्र २०८) ।

सेल्लया पुं [शैल्यक] भुजपरिसर्प की एक जाति, जन्तु-विशेष (पण १, १—पत्र ८) ।

सेल्लि वी [दे] रज्जु, रस्ती (उत्त २७, ७) । सेव सक [सेव्] १ आराधन करना । २ आश्रय करना । ३ उपभोग करना । सेवइ, सेवए (आचा; उव; महा) । भूका. सेवित्वा, सेविमु (आवा) । वक्र. सेवमाण (सम ३६; भग) । कवक. सेविज्जंत, सेविज्जमाण (सुर १२, १३६; कम्प) । संक. सेविअ, सेवित्ता (नाट—मृच्छ २४५; आचा) । क. सेवेयव्व (सुपा ५५७; कुमा), सेवणिय (सुपा १६७) ।

सेवग देवो सेवय (पंचा ११, ४१) ।

सेवड देवो से° = खेत ।

सेवण न [सेवन] १ सीना, सिलाई करना (उप पृ १२३) । २ सेवा (उत्त ३५, ३) ।

सेवणया वी [सेवना] सेवा (उत्त २६, सेवणा १; उप ८०१) ।

सेवय वि [सेवक] १ सेवा-कर्ता (कुप्र ४०२) । २ पुं. नौकर, भृत्य (पात्र; कुप्र ४०२; सुपा ५३२) ।

सेवल न [शैवल] सेवार, सेवाल, एक प्रकार की घास जो नदियों में लगती है (पात्र) ।

सेवा वी [सेवा] १ भजन, पर्युपासना, भक्ति । २ उपभोग । ३ आश्रय । ४ आराधन (हे २, २६; कुमा) ।

सेवाड न [शैवाल] १ सेवार, सेवाल, सेवाल घास विशेष (उप पृ १३६; पात्र; जी ६) । २ पुं. एक तापस, जिसको गौतम स्वामी ने प्रतिवोध किया था (कुप्र २६३) ।

दाइ पुं [दायिन्] भगवान् महावीर के समय का एक अलैन पुत्र्य (भग ७, १०—पत्र ३२३) ।

सेवाल पुं [दे] पट्ट, कादा, कांदो (दे ८, ४३; पड) ।

सेवाल्लि पुं [शैवाल्लिन्] एक तापस, जिसको गौतम स्वामी ने प्रतिवोध किया था (उप १४२ टी) ।

सेवाल्लिय वि [शैवाल्लिक, त] सेवालवाला, शैवाल-युक्त; सेवाल्लियभूमितले फिल्लुसमाणा य यामयामम्मि (सुर २, १०५) ।

सेवि वि [सेविन्] सेवा-कर्ता (उवा) ।

सेवित्त वि [सेवित्] ऊपर देवो (सम १५) ।

सेविय वि [सेवित] जिसकी सेवा की गई हो वह (काल) ।

सेव्वा देवो सेव (हे २, ६६; प्राप्र) ।

सेस पुं [शेष] १ शेष-नाग, सर्प-राज (से २, २८) । २ छन्द का एक भेद (पिण) । ३ वि. अवशिष्ट, बाकी का (ठा ३, १ टी—पत्र ११४; दसनि १, १३४; हे १, १८२; गउड) । मई, वई वी [वती] १ सातवें वसुदेव की माता (सम १५२) । २ दक्षिण रुचक पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६; इक) । ३ वल्लो-विशेष (पण १—पत्र ३३) । ४ भगवान् महावीर की दौहित्री—पुत्री की पुत्री (आचा २, १५, १६) । व न [वत्] अनुमान का एक भेद (अणु २१२) । राअ पुं [राज] छन्द-विशेष (पिण) ।

सेसव न [शैशव] बाल्यावस्था (दे ७, ७६) ।

सेसा वी [शेषा] निर्माल्य (उप ७२८ टी; सिरि ५५५) ।

सेसिअ वि [शेषित] १ बाकी बचाया हुआ (गा ६६१) । २ अल्प किया हुआ, खतम किया हुआ (विसे ३०२६) ।

सेसिअ वि [श्लेषित] संबद्ध किया हुआ, चिपकाया हुआ (विसे ३०३६) ।

सेह अक [नश्] पलायन करना, भागना । सेहइ (हे ४, १७८; कुमा) ।

सेह सक [शिक्ष्य] १ सिखाना, सीख देना । २ सजा करना । सेहति (सूत्र १, २, १, १६) । कवक. सेहिज्जंत (सुपा ३४५) ।

सेह पुं [दे. सेह] भुजपरिसर्प की एक जाति, साठी, जिसके शरीर में काटे होते हैं (पण १, १—पत्र ८; पण १—पत्र ५३) ।

सेह पुं [शैक्ष] १ नव-दीक्षित साधु (सूत्र १, ३, १, ३; सम ५८; ओष १६५; ३७८; उव; कस) । २ जिसको दीक्षा दी जानेवाली हो वह (पत्र १०७) । ३ शिष्य, चेला (सुख १, १३) ।

सेह पुं [सेध] सिद्धि (उवा) ।

सेहंव वि [सेधाम्ल] खाद्य-विशेष, वह खाद्य जिसमें पकने पर खटाई का संस्कार किया जाय (उवा; पण २, ५—पत्र १५०) ।

सेहणा स्त्री [त्रिभुजा] शिखा, सजा, कदर्थना; 'वहव्यमारणसेहणाओ काप्रो परिगहहे नरिय' (उव) ।

सेहर पुं [शेखर] शिखा; 'फलसेहरा' (पिंड १६५; पात्र) । २ छन्द-विशेष (पिण) । ३ मस्तक-स्वित माला (कुमा) ।

सेहरय पुं [दे] चक्रवाक पत्नी (दे ८, ४३) ।  
सेहालिआ देखो सेभालिआ (स्वप्न ६३; गा ४१२; कुमा; हे १, २३६) ।

सेहाली स्त्री [शेफाली] लता-विशेष (दे ५, ४) ।

सेहाव देखो सेह = सितय् । सेहावेइ (पि ३२३) । नवि. सेहावेहिति (श्रीप) । संक्र. सेहावेत्ता (पि ५-२) । हे. सेहावेत्तए (कत) । क. सेहावेयव्य (भक्त १६०) ।

सेहाविअ वि [शिखित] सिलाया हुआ (भग; एाया १, १—पत्र ६०; पि ३२३) ।

सेहि देखो सिद्धि (आचा) ।

सेहिअ वि [सैद्धिक] १ मुक्ति-सम्बन्धी । २ निष्पत्ति-संबन्धी (सूत्र १, १, २, २) ।

सेहिउ वि [दे] गत, गया हुआ (दे ८, १) ।

सो सक [सु] १ दाह बनाना । २ पीड़ा करना । ३ मन्यन करना । ४ श्रक. स्नान करना । सोइ (पड) ।

सो } श्रक [स्वप्] सोना, सूतना । सोइ,  
सोअ } सोअइ (वाला १५७; प्रा. ६६) ।

सोअ सक [शुच्] १ शोक करना । २ शुद्धि करना । सोअइ, सोएइ, सोईति, सोयति (से १, ३८; हे ३, ७०; आचा; श्रक १७४; १७५; सूत्र २, २, ५५) । वक्र. सोईत, सोएत (उप १४६ टी; पत्र ११८, ३५) । कवक. सोइलंत (सण) । क. सोअगिज्ज, सोअणीअ, सोइयव्य (अभि १०५; सूक्त ४७; पत्र ३०, ३५) । देखो सोच = शुच् ।

सोअ न [शौच] १ शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता (आचा; श्रीप; सुर २, ६२; उप ७६८ टी; सुपा २८१) । २ चोरी का श्राव, पर-द्रव्य का अहरण (सम १२०; नव २३; आ ३१) ।

सोअ पुं [शोक] श्रफलोस, दिलगीरी (सुर १, ५३; गठ; कुमा; महा) ।

सोअ न [श्रोत्र] कान, ध्रुवणेन्द्रिय (आचा; भग श्रीप; सुर १, ५३) । °मय वि [°मय] ध्रुवणेन्द्रिय-जन्म (ठा १०—पत्र ४७६) ।

सोअ पुंन [स्रोतस्] १ प्रवाह (आचा; गा ६६२) । २ छिद्र (श्रीप) । ३ वेग (एाया १, ८) ।

सोअण न [स्वपन] शयन (उव) ।

सोअग न [शोचन] १ शोक, दिलगीरी (सूत्र २, २, ५५; संबोध ४६) । २ शुद्धि, प्रज्ञान (स ३४८) ।

सोअणया } स्त्री [शोचना] १ ऊपर देखो  
सोअणा } (श्रीप; श्रक १७४) । २  
दीनता, दैन्य (ठा ४, १—पत्र १८८) ।

सोअमह न [सौकुमार्य] सुकुमारता, श्रति-कोमलता (हे १, १०७; प्रा. कुमा) ।

सोअर पुं [सोदर] सगा भाई (प्रवो २६; सुपा १६३; रंभा) ।

सोअरा स्त्री [सोदरा] सगी बहन (कुमा) ।

सोअरिअ वि [शौकरिक] १ शूकरो का शिकार करनेवाला (विपा १, ३—पत्र ५४) । २ शिकारी, मृगया करनेवाला । ३ कवाई (पिंड ३१४; उव; सुपा २१४) ।

सोअरिअ वि [सोदर्य] सहोदर, एक उदर से उत्पन्न (सूत्र १, १, १, ५) ।

सोअह देखो सोअमह (संज्ञि २) ।

सोअविय स्त्री [शौच] शुद्धि, पवित्रता (सूत्र २, १, ५७) । स्त्री. °या (आचा) ।

सोअव्य देखो सुण = थु ।

सोआमणी } स्त्री [सौदामनी, °मिनी] १  
सोआमिणी } विद्युत, विजली (उत्त २२, ७; पत्र ७४, १४; स १२; महा; पात्र) ।  
२ एक दिवकुमारी देवी (इक; ठा ४, १—पत्र १६८) ।

सोइअ न [शोचित] चिन्ता, विचार (सुर ८, १४; सुपा २६६) । देखो सोचिय ।

सोइदिय न [श्रोत्रेन्द्रिय] ध्रुवणेन्द्रिय, कान (भग) ।

सोइविअ देखो सोगंधिअ (इक) ।

सोउ वि [श्रोत्र] सुननेवाला (स ३; प्रा. २) ।

सोउणिअ देखो सोवणिअ (सूत्र २, २, २८; पि १५२) ।

सोउमह देखो सोअमह (अभि २१३; सुर ८, १२५) ।

सोउ देखो सुंड (पात्र) । °भगर पुं [°भकर] मगर की एक जाति (पण १—पत्र ४८) ।

सोडा स्त्री [शुण्डा] १ मुर, दाह (आचा २, १, ३, २) । २ हाथी की नाक, सूंड (उवा) ।

सोडिअ पुं [शौण्डिक] दाह देनेवाला, कलवार (अभि १८८) ।

सोडिया स्त्री [शुण्डिका] दाह का पात्र-विशेष (ठा ८—पत्र ४१७) ।

सोडोर वि [शौण्डोर] १ शूर, वीर, पराक्रमी (कप; सुर २, १३४; सुपा ६०) । २ गर्व-युक्त, गर्वित (महा) ।

सोडोर न [शौण्डोर्य] १ पराक्रम, शूरता । २ गर्व (हे २, ६३; पड) ।

सोडोरिम पुं [शौण्डोरिमन्] ऊपर देखो (सुपा २६२) ।

सोदज्ज (शौ) देखो सुंदर (पि ८४) ।

सोक देखो सुक = शुक् (पड) ।

सोक्ख देखो सुक्ख = सौख्य (प्रा. १०; गा १५८; सुपा ७०; कुमा) ।

सोक्ख देखो सुक्ख = शुक् (पड) ।

सोग देखो सोअ = शोक (पत्र २०, ४५; सुर २, १४०; स २५५; प्रा. ८३; उव) ।

सोगंध } न [सोगन्ध] १ लगातार  
सोगंधिअ } चौबीस दिनों के उपवास (संबोध ५८) । २ सुगन्धपन, सुगन्ध; 'सोगंधिय-परिकल्पितं तंवात्' (सम्मत्त २२०) ।

सोगंधिअ न [सौगन्धिक] १ रत्न-विशेष, रत्न की एक जाति (एाया १, १—पत्र ३१; पण १—पत्र २६; उत्त ३६, ७७; कप; कुम्मा १५) । २ रत्नप्रभा नामक तरक-पृथिवी का एक सौगन्धिक-रत्न-भय कारड (सम ८६) । ३ कढ़ार, पानी में होनेवाला खेत कमल (सूत्र २, ३, १८; राय ८२) । ४ पुं. नपुंसक का एक भेद, अपने लिंग को सूँघनेवाला नपुंसक (पव १०६; पुष्प १२८) । ५ पुं. एक देव-विमान (देवेन्द्र १४२) । ६ वि. सुगन्धवाला, सुगन्धी (उवा; सम्मत्त २२०) ।

सोमधिवा वी [सौमन्धिका] नगरी-विशेष  
(खाया १, ५—पत्र १०५)।

सोममल्ल देखो सोअमल्ल (दस २, ५)।

सोमगइ देखो सुमगइ (उत्त २८, ३; पउम  
२६, ६०; स २५०)।

सोमगाह (?) अक [प्र + सृ] पत्तरना,  
फैलना। सोमगाहइ (वात्वा १५६)।

सोच देखो सोअ = शुच्। वक्क. सोचंत,  
सोचमाण (नाट—मृच्छ २८१; खाया १,  
१—पत्र ४७)। संक. 'सोचिऊण हत्वपाए  
आरोग्गमणिरयणेण ओमज्जिओ राया' (स  
५६७)। क. सोच्च (उव)।

सोचिय वि [शोचित] शुद्ध किया हुआ,  
प्रकालित (स ३४८)।

सोच्च देखो सोच।

सोच्चं  
सोच्चा  
सोच्छं

देखो सुण = श्रु।

सोच्छिअ देखो सोत्थिअ (इक)।

सोजण्ण } न [सौजन्य] सुजनता, सजनता,  
सोजन्न } भलमनसी (उप ७२८ टी; सुर २,  
६१)।

सोज्ज देखो सोरिअ = शौर्यं (प्राक् १६)।

सोज्ज वि [शोधय] शुद्धि-योग्य, शोधनीय  
(सुज १०, ६ टी)।

सोज्जमय पुं [दे] रजक, घोवी (पात्र)।  
देखो सुज्जमय।

सोडिअ देखो सोडिअ (कर्पूर ३४)।

सोडीर वि [शौटीर] देखो सोडिअ = शौएडीर  
(कप्प; औप; मोह १०४; कप्पू; चार ६३)।

सोडीर न [शौटीर्य] देखो सोडिअ = शौएडीर्यं  
(कुमा; से ३, ४; ५, ३; १३, ७६; ८७;  
प्राक् १६)।

सोड वि [सोड] सहन किया हुआ (उप २६४  
टी; वात्वा १५७)।

सोडव्व  
सोडुं } देखो सह = सह।

सोण वि [शोण] लाल, रक्त वर्णवाला  
(पात्र)।

सोणंद न [दे. सौनन्द] त्रिकाण्डिका, तिपाईं  
(परह १, ४—पत्र ७८; औप; तंडु २०)।

सोणहिअ वि [शौनकिक] १ धान-पालक।  
२ कूत्तों से शिकार करनेवाला (स २५३)।

सोणार देखो सुण्णार (गा १६१; पि ६६;  
१५२)।

सोणि वी [श्रोणि] कटी, कमर (कप्प; उप  
१५६)। सुत्तग न [सूत्रक] कटी-सूत्र,  
करवनी (औप)।

सोणिअ पुं [शौनिक] कसाई (दे ६, ६२)।

सोणिअ न [शोणित] बधिर, खून (जवा;  
भवि)।

सोणिम पुं वी [शोणिमन्] रक्तता, लाली  
(विक्र २८)।

सोणी वी [श्रोणी] देखो सोणि (परह १,  
४—पत्र ६८; ७६)।

सोणीअ देखो सोणिअ = शोणित, 'भुंजते  
मंसतोणीअं ए छणे ए पमजए' (आचा १,  
८, ८, ६; पि ७३)।

सोण्ण न [स्वर्ण] सोना, सुवर्ण (प्राक् ३०;  
संलि २२)।

सोण्ह देखो सुण्ह = सुक्ष्म (पड्; गा ७२३)।

सोण्हा देखो सुण्हा = स्नुपा (संलि १५; प्राक्  
३७; गा १०७; काप्र ८६३)।

सोत्त न [श्रोत्र] कान, श्रवणेन्द्रिय (आचा;  
रंभा; विक्र ६८)।

सोत्त देखो सोअ = स्रोतस् (हे २, ६८; गा  
५५१; से १, ५८; कुमा)।

सोत्ति देखो सुत्ति = शुक्ति (पड्; उप ६४८  
टी)।

सोत्तिअ पुं [श्रोत्रिय] वेदान्यासी ब्राह्मण  
(पिड ४३६; नाट—मृच्छ १३४; प्राप)।

सोत्तिअ वि [सौत्रिक] १ सूत्र-निर्मित, सूते  
का बना हुआ (ओषभा ८६; ओष ७०५)।  
२ सूते का व्यापारी (घणु १४६)।

सोत्तिअ पुं [शौक्तिक] द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष  
(परह १—पत्र ४४)।

सोत्तिअमई वी [शुक्तिदावती] केकय  
सोत्तिअवई देश की प्राचीन राजधानी  
(राज; इक)।

सोत्ती वी [दे] नदी (दे ८, ४४; पड्)।

सोत्थि पुं न [स्वस्ति] १ एक देव-विमान  
(देवेन्द्र १३३)। २—देखो सत्थि (संलि

२१; गा २४४; अमि १२८; नाट—रत्ना  
१०)।

सोत्थिअ पुं [स्वस्तिक] १ ज्योतिष्क ग्रह-  
विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)। २ न.  
शाक-विशेष, एक प्रकार की हरित वनस्पति  
(परह १—पत्र ३४)। ३—देखो सत्थिअ,  
सोवत्थिअ = स्वस्तिक (परह १, ४—पत्र  
६८; खाया १, १—पत्र ५४)।

सोदाम पुं [सौदाम] देखो सोदामि  
(इक)।

सोदामणी देखो सोआमणी (पउम २६,  
८१)।

सोदामि पुं [सौदामिन्] चमरेन्द्र के अश्व-  
सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र  
३०२)।

सोदामिणी देखो सोआमिणी (नाट—  
मालती ८)।

सोदास पुं [सौदास] एक राजा (पउम  
२२, ८१)।

सोध (शौ) देखो सउह = सौव (पि ६१ ए)।

सोपार } पुं. व. [सोपार, क] देश-  
सोपारय } विशेष (पउम ६८, ६४; सुपा  
२७५)। २ न. नगर-विशेष (सार्ध ३६;  
ती ११)।

सोवंधव वि [सौवन्धव] सुवन्धु नामक कवि  
का बनाया हुआ ग्रंथ (गउड)।

सोभ अक [शुभ] शोभना, चमकना।  
सोभंत (सुज १६) भूका. सोमिमु, सोमैसु  
(सुज १६)। भवि. सोमिस्संत (सुज  
१६)। वक्क. सोभंत (खाया १, १—पत्र  
२५; कप्प; औप)।

सोभ सक [शोभय] शोभाना, शोभा-युक्त  
करना। सोभेइ (भग)। वक्क. सोभयंत (पि  
४६०)। संक. सोभित्ता (कप्प)।

सोभग वि [शोभक] १ शोभनेवाला। २  
शोभानेवाला (कप्प)।

सोभग्ग देखो सोहग्ग (स्वप्न ४५)।

सोभण देखो सोहण = शोभन (पउम ७८,  
५६; स्वप्न ४६)।

सोभा देखो सोहा = शोभा (प्राक् १७; उत्त  
२१, ८; कप्प; सुज १६)।



सोभिय देखो सोहिअ = शोभित (गाथा १, १ टी—पत्र ३)।

सोम पुं [सोम] १ चन्द्र, चांद, एक ज्योतिष्क महाग्रह (ठा २, ३—पत्र ७७; विसे १८८३; गउड)। २ भगवान् पारश्वनाथ का पांचवां गणवर (सम १३; ठा ८—पत्र ४२६)। ३ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश (पउम ५, २)। ४ चतुर्थ बलदेव और वासुदेव का पिता (ठा ६—पत्र ४४७; पउम २०, १८२)। ५ एक विद्यावर नर-मति, जो ज्योतिःपुर का स्वामी था (पउम ७, ४३)। ६ एक सेठ का नाम (सुपा ५६७)। ७ एक ब्राह्मण का नाम (गाथा १, १६—पत्र १६६)। ८ चमरेन्द्र, बल्लोन्द्र, सौवर्मेन्द्र तथा ईशानेन्द्र के एक-एक लोकपाल के नाम (ठा ४, १—पत्र २०४; भग ३, ७—पत्र १६४)। ९ लता-विशेष, सोमलता। १० उसका रस। ११ अमृत (पड)। १२ आर्य-सुहृत्ति सूरि का एक शिष्य—जैन मुनि (कप्प)। १३ पुंन. देव-विमान-विशेष (द्वेन्द्र १३३; १४३; १४५)। १४ वि. कीर्त्तिमान्, यशस्वी (कप्प)। १५ काइय पुं [कायिक] सोम लोकपाल का आज्ञाकारी देव (भग ३, ७—पत्र १६५)। १६ गहण न [ग्रहण] चन्द्र-ग्रहण (हे ४, ३६६)। १७ चंद्र पुं [चन्द्र] १ ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न सातवें जिन-देव (सम १५३)। २ आचार्य हेमचन्द्र का बीजा समय का नाम (कुप्र २१)। ३ जस पुं [जसस्] एक राजा (सुर २, १३४)। ४ ग्राह देखो नाह (राज)। ५ दत्त पुं [दत्त] १ एक ब्राह्मण का नाम (गाथा १, १६—पत्र १६६)। २ एक जैन मुनि, जो भद्र-बाहु-स्वामी का शिष्य था (कप्प)। ३ भगवान् चन्द्रप्रभ स्वामीको प्रथम भिक्षा-दाता गृहस्थ (सम १५१)। ४ राजा शतानीक का एक पुरोहित (विपा १, ५—पत्र ६०)। ५ द्रव पुं [द्रव] १ सोम नामक लोकपाल का सामानिक देव (भग ३, ७—पत्र १६५)। २ भगवान् पद्मप्रभ को प्रथम भिक्षा-दाता गृहस्थ (सम १५१)। ३ नाह पुं [नाथ] सौराष्ट्र देश की सुप्रसिद्ध महादेव-मूर्ति (ती १५; सम्मत ७५)। ४ प्पभ, प्पह पुं [प्रभ]

१ क्षत्रियों के सोमवंश का आदि पुत्र, बाहु-बलि का एक पुत्र (पउम ५, १०; कुप्र २१२)। २ तेरहवीं शताब्दी का एक जैन आचार्य और ग्रंथकार (कुप्र ११५)। ३ चमरेन्द्र के सोम-लोकपाल का उत्पात-पर्वत (ठा १०—पत्र ४८२)। ४ भूइ पुं [भूति] एक ब्राह्मण का नाम (गाथा १, १६—पत्र १६६)। ५ भूइय न [भूतिक] एक कुल का नाम (कप्प)। ६ य न [क] एक गोत्र, जो कौत्स गोत्र की शाखा है (ठा ७—पत्र ३६०)। ७ वा, वि [प, पा] सोम-रस पीनेवाला (पड)। ८ सिरी स्त्री [श्री] एक ब्राह्मणी (श्रंत)। ९ सुंदर पुं [सुन्दर] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य तथा ग्रंथकार (संति १४; कुलक ४४)। १० सूरि पुं [सूरि] एक जैनाचार्य, आराधना-प्रकरण का कर्ता एक जैनाचार्य (आप ७०)।

सोम वि [सौम्य] १ अरौद्र, अनुग्र (ठा ६; भग १२, ६—पत्र ५७८)। २ नीरोग, रोग-रहित (भग १२, ६)। ३ प्रशस्त, श्लाघ्य (कप्प)। ४ प्रिय-दर्शन, जिसका दर्शन प्रिय मालूम हो वह। ५ मनोहर, सुन्दर। ६ शान्त आदितिवाला (अधभा २२; उव; सुपा १८०; ६२२)। ७ शोभा-युक्त, दीप्तिमान् (जं २)। देखो सोम्म।

सोमइअ वि [दे] सोने की आदतवाला (दे ८, ३६)।

सोमंगल पुं [सौमङ्गल] द्विन्द्रिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १२६)।

सोमणतिय वि [स्वापचान्तिक, स्वापान्तिक] १ सोने के वाद किया जाता प्रतिक्रमण—प्रायश्चित्त-विशेष। २ स्वप्न-विशेष में किया जाता प्रतिक्रमण (ठा ६—पत्र ३७६)।

सोमणस पुं [सौमनस] १ महाविदेह-वर्ष का एक ब्रह्मन्कार-पर्वत (ठा २, ३—पत्र ६६; सम १०२; जं ४)। २ उस पर्वत पर रहनेवाला एक महद्विक देव (जं ४)। ३ पक्ष का आठवां दिन (सुज्ज १०, १४) ४ पुंन. सतकुमार नामक इन्द्र का एक पारि-यानिक विमान (ठा ८—पत्र ४३७; औप)।

५ एक देव-विमान, छठवां त्रैवेयक-विमान (द्वेन्द्र १३७; १४३; पत्र १६४)। ६ सोम-नक्ष-पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३—पत्र ८०)। ७ न. मेरु-पर्वत का एक वन (ठा २, ३—पत्र ८०)।

सोमणस न [सौमनस्य] १ सुन्दर मन-संतुष्ट मन (राय; कप्प)।

सोमणसा स्त्री [सौमनसा] १ जम्बू-द्वीप विशेष, जिससे यह द्वीप जम्बूद्वीप कहलाता है (इक)। २ एक राजधानी (इक)। ३ सौमनस वन की एक वापी (जं ४)। ४ पक्ष की पांचवीं रात्रि (सुज्ज १०, १४)।

सोमणसिय वि [सौमनसियत] १ संतुष्ट मनवाला। २ प्रशस्त मनवाला (कप्प)।

सोमणस देखो सोमणस = सौमनस्य (कप्प; औप)।

सोमणरिसिय देखो सोमणसिय (कप्प; औप-गाथा १, १—पत्र १३)।

सोमह देखो सोअमह (प्राक २०; ३०)।

सोमहिद न [दे] उदर, पेट (दे ८, ४५)।

सोमहिडु पुं [दे] पंज, कादा (दे ८, ४३)।

सोमा स्त्री [सोमा] १ शक्र के सोम आदि चारों लोकपालों की एक-एक पटरानी का नाम (ठा ४; १—पत्र २०४)। २ सातवें जिनदेव की प्रथम शिष्या (सम १५२; पत्र ६)। ३ सोम लोकपाल की राजधानी (भग ३, ७—पत्र १६५)।

सोमा स्त्री [सौम्या] उत्तर दिशा (ठा १०—पत्र ४७८; भग १०, १—४६३)।

सोमाण न [इमसान] मसान, मरघट (दे ८, ४५)।

सोमाणस पुं [सौमानस] सातवां त्रैवेयक-विमान (पत्र १६४)।

सोमर } देखो सुकुमार (गा १८६; स  
सामाल } ३५६; मै ७; पड; प्राप्र; हे १,  
१७१; कुमा; प्राक २०; ३८; भवि)।

सोमाल न [दे] मास (दे ८, ४४)।

सोमिति पुं [सौमित्रि] राम-भ्राता लक्ष्मण (गा ३५)।

सोमिति स्त्री [सुमित्रा] लक्ष्मण की माता।

पुत्त पुं [पुत्र] लक्ष्मण; 'रामसोमिति-पुता' (पउम ३८, ५७) सुव पुं [सुत] वही अर्थ (पउम ७२, ३)।

सोमिल पुं [सोमिल] एक ब्राह्मण (अंत ६)।

सोमेत्ति देखो सोमिन्ति = सोमिन्ति (से १२, ८८)।

सोमेसर पुं [सोमेश्वर] सौराष्ट्र का सोमनाथ महादेव (सम्मत ७५)।

सोम्म वि [सौम्य] ? रमणीय, सुन्दर (से १, २७)। २ ठंडा, शीतल (से ४, ८)।

३ शीतल प्रकृतिवाला, शान्त स्वभाववाला (से ५, १६; वित्ते १७३१)। ४ प्रिय-दर्शन, जिसका दर्शन प्रिय लगे वह। ५ जिसका अविद्यता सोम-देवता हो वह। ६ नास्वर, कान्तिवाला। ७ पुं. बुध ग्रह। ८ शुभ ग्रह। ९ वृष आदि सम राशि। १० उदुम्बर वृक्ष। ११ द्वीप-विशेष। १२ सोम-रस पीनेवाला ब्राह्मण (प्राप्र)। देखो सोम = सौम्य।

सोज्जि (अप) अ [स एव] वही (प्राक १२१)।

सोरट्ट पुं [सौराष्ट्र] ? एक भारतीय देश, सोरठ, काठियावाड़ (इक; तो १५)। २ वि. सोरठ देश का निवासी (आवक ६३)। ३ न. छन्द-विशेष (पिंग)।

सोरट्टिया वी [सौराष्ट्रिका] ? एक प्रकार की मिट्टी, फिटफिरी (आचा २, १, ६, ३; दस ५, १; ३४)। २ एक जैन मुनि-शाखा (कप्य)।

सोरठभ न [सौरभ] सुगन्ध, खुशबू (विक्र सोरभ } ११३; कुप्र २२३; भवि; उप सोरभ } ६८६ टी)।

सोरसेणी वी [शौरसेनी] शूरसेन देश की प्राचीन भाषा, प्राकृत भाषा का एक भेद (विक्र ६७)।

सोरह देखो सोरभ (गडड)।

सोरिअ न [शौर्य] शूरता, पराक्रम (प्राप्र; प्राक १६)।

सोरिअ न [शौरिक] ? कुशावर्त देश की प्राचीन राजधानी (इक)। २ एक यज्ञ (विपा १, ८—पत्र ८२)। ३ दत्त पुं [दत्त] ? एक मच्छीमार का पुत्र (विपा १, १—पत्र ४; विपा १, ८)। ४ एक राजा (विपा १, ८—पत्र ८२)। ५ पुर न [पुर] एक नगर

(विपा १, ८)। ६ वडिसग न [वतंसक] एक उद्यान (विपा १, ८—पत्र ८२)।

सोलस वि. व. [पोडशन्] ? संख्या-विशेष, सोलह, १६। २ सोलह संख्यावाला (मग ३५, १—पत्र ६६४; ६६७; उवा; सुर १; ३५; प्राप् ७७; पि ४४३)। ३ वि. सोलहवाँ, १६ वाँ (राज)। ४ म वि [ंश] ? सोलहवाँ, १६ वाँ (राया १, १६—पत्र १६६; सुर १६, २५१; पत्र ४६)। ५ लगा तार सात दिनों के उपवास (राया १, १—पत्र ७२)। ६ य न [ंक्] सोलह का समूह (उत्त ३१, १३)। ७ विह वि [ंविध] सोलह प्रकार का (पि ४५१)।

सोलसिआ वी [पोडशिका] रस-मान-विशेष, सोलह पलों की एक नाप (अणु १५२)।

सोलह देखो सोलस (नाट; भवि)।

सोलहावत्तय पुं [दे] शंख (दे ८, ४६)।

सोलह सक [पच्] पकाना। सोलह (हे ४, ६०; घात्वा १५६)। वक्र. सोलहत (विपा १, ३—पत्र ४३)।

सोलह सक [क्षिप्] फेंकना। सोलह (हे ४, १४३; पड्)। कर्म. सोलहज्जइ (कुमा)।

सोलह सक [ईर्, सम् + ईर्] प्रेरणा करना। सोलह (घात्वा १५६; प्राक ६६)।

सोलह न [दे] मांस (दे ८, ४४)। देखो सुलु = शूल्य।

सोलह वि [पक्] पकाया हुआ (उवा; विपा १, २—पत्र २७; १, ८—पत्र ८५; ८६; औप)।

सोलहिय वि [पक्] ? पकाया हुआ, 'इंगाल-सोलहिय' (औप)। २ न. पुष्प-विशेष (औप)।

सोव देखो सुव = स्वप्। सोवइ, सोवति (हे १, ६४; उव; भवि; पि १५२)।

सोवकम } वि [सोपक्रम] निमित्त-कारण  
सोवकम } से जो नष्ट या कम हो सके वह कर्म, आयु, आपदा आदि (सुपा ४५२; ४५६)।

सोवचिय वि [सोपचित] उपचय-युक्त, स्फोट, पुष्ट (कप्य)।

सोवच्चल पुं [सौवर्चल] एक तरह का नोन, काला नमक (दस ३, ८; वंड)।

सोवण न [स्वपन] शयन, सोना (उप पृ २३७)।

सोवण न [दे] ? वास-गृह, शय्या-गृह, रति-मन्दिर (दे ८, ५८; स ५०३; पाप्र)। २ स्वप्न। ३ पुं. मल्ल (दे ८, ५८)।

सोवण (अप) देखो सोवण्ण (भवि)।

सोवणिअ वि [शौवनिक] ? श्वान-पालक, कुत्तों को पालनेवाला। २ कुत्तों से शिकार करनेवाला (सुप्र २, २, ४२)।

सोवणी वी [स्वापनी] विद्या-विशेष (पि ७८)।

सोवण्ण वि [सौवर्ण] स्वर्ण-निर्मित, सोने का (महा; सम्मत १७३)।

सोवण्णमक्खिआ वी [दे] मधुमक्षिका की एक जाति, एक तरह की शहद की मक्खी (दे ८, ४६)।

सोवण्णिअ } वि [सौवर्णिक] सोने का,  
सोवण्णिअ } सुवर्ण-वर्तित (प्रति ७; स ४५८)। ३ पञ्चय पुं [पर्वत] मेरु पर्वत (पउम २, १८)।

सोवण्णेअ पुं वी [सौपर्णेय] गहड़पत्नी। वी. ०आ, ०ई (पड्)।

सोवथ न [दे] ? उपकार। २ वि. उपभोग्य, उपभोगयोग्य (दे ८, ४५)।

सोवत्थि } वि [सौवस्तिक] ? माङ्गलिक  
सोवत्थिअ } वचन बोलनेवाला, मागध आदि स्वस्ति-वाचक (ठा ४, २—पत्र २१३; औप)। २ पुं. ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)। ३ त्रिन्द्रिय जन्तु की एक जाति (परण १—पत्र ४५)।

सोवत्थिअ पुं [स्वस्तिक] ? साधिया, एक मङ्गलचिह्न (औप)। २ पुं. विद्युत्प्रभ नामक वलस्कार पर्वत का एक शिखर (इक)। ३ पूर्व रचक-पर्वत का एक शिखर (राज)। ४ एक देव-विमान (देवेन्द्र १४१)। देखो सत्थिअ, सोत्थिअ = स्वस्तिक।

सोवन्न देखो सोवण्ण (अंत १७; आ २८; सिरि ८११; भवि)।

सोवन्निअ देखो सोवण्णिअ (राया १, १—पत्र ५२)।

सोवरिअ देखो सोथरिअ = शौकरिक (सुप्र २, २, २८)।

सोवरी व्री [शाम्वरी] विद्या-विशेष (सूत्र २, २, २७) ।

सोववन्तिथि वि [सोपपत्तिक] सयुक्तिक, युक्ति-युक्त (उप ७२८ टी) ।

सोवाअ वि [सोपाय] उपाय-साध्य (गउड) ।

सोवाग पुं [श्रपाक] चारुडाल, डोम (श्राचा; ठा, ४, ४—पत्र २७१; उत १३, ६; उव; सुपा ३७०; कुप्र २६२; उर १, १५) ।

सोवारी व्री [श्रपाकी] विद्या-विशेष (सूत्र २, २, २७) ।

सोवाण न [सोपानं] सीढ़ी, निसेनी, पैड़ी (सम १०६; गा २७८; उव; सुर १, ६२) ।

सोवासिणी देखो सवासिणी (भवि) ।

सोविअ वि [स्वापित] मुलाया हुआ, शायित; 'कमलकिसलयरइए सत्वरए सोविश्रो तेए' (सुर ४, २४४; उप १०३१ टी) ।

सोविद्यह पुं व्री [सौविदह] अन्तःपुर का रत्नक (गउड) । व्री. °ल्ली (सुपा ७) ।

सोवीर पुं. व. [सौवीर] १ देश-विशेष (पत्र २७५; सूत्र १, ५, १, १—टी) । २ न. काञ्चिक, काँजी (ठा ३, ३—पत्र १४७; पाथ) । अञ्जन-विशेष, सौवीर देश में होता सुरमा (जी ४) । ४ मद्य-विशेष (कस) ।

सोवीरा व्री [सौवीरा] मध्यम ग्राम की एक मूर्च्छता (ठा ७—पत्र ३६३) ।

सोव्य वि [दे] पतित-दन्त, जिसका दाँत गिर गया हो वह (दे ८, ४५) ।

सोस सक [शौपय] सुखाना, शोषण करना । सोसइ (भवि) । वक्र. सोसयंत (कप्प) ।

सोस देखो सुस्स । सोसउ (हे ४, ३६५) ।

सोस पुं [शोष] १ शोषण (गउड; प्रासू ६४) । २ रोग-विशेष, दाह-रोग (लहुअ १५) ।

सोसण पुं [दे] पवन, वायु (दे ८, ४५) ।

सोसण न [शोषण] १ सुखाना । २ कामदेव का एक वारण (कप्प) । ३ वि. शोषण-कर्ता, सुखानेवाला (पउम २८, ५; कुप्र ४७) ।

सोसणया } व्री [शोषणा] शोषण (उवा; सोसणा } उत ३, ५) ।

सोसणी व्री [दे] कटी, कमर (दे ८, ४५) । सोसविअ वि [शोपित] मुखाया हुआ (हे ३, १५०, उव) ।

सोसाव देखो सोस = शोपय् । हेक. सोसावेदुं (शौ) (नाट) ।

सोसास वि [सोच्छ्वास] ऊर्ध्वं श्वास-युक्त (पड) ।

सोसिअ देखो सोसविअ (हे ३, १५०; सुर ३, १८६; महा) ।

सोसिअ वि [सोच्छ्रित] ऊँचा किया हुआ (कप्प) ।

सोसिह वि [शोफवत्] शोफ-युक्त, सूजन रोगवाला (विपा १, ७—पत्र ७३) ।

सोह अक [शुभ्] शोभना, चमकना । सोहइ, सोहए सोहंति (हे १, १८७; पात्र; कुमा) । वक्र. सोहंत, सोहमाण (कप्प; सुर ३, १११; नाट—उत्तर ८) ।

सोह सक [शोभय] शोभा-युक्त करना । सोहइ (उवा) ।

सोह सक [शोधय] १ शुद्धि करना । २ खोज करना, गवेषणा करना । ३ संशोधन करना । सोहइ (उव) । वक्र. 'लूत्तिअं सगिहं ददुं सोहिंजे दइअं निअं' (श्रा १२) । सोहमाण (उवा; विपा १, १—पत्र ७) । कवक्र. सोहिजंत (उप ७२८ टी) । कृ. सोहणीअ, सोहैयव्य (खाया १, १६—पत्र २०२; नाट—शकु ६६; सुपा ६५७) । संक्र. सोहइत्ता (उत २६, १) ।

सोह देखो सउह = सौध (वकिम ६१; प्रति ४१; नाट—मालती १३८) ।

सोहंजण पुं [दे. शोभाञ्जन] वृद्ध-विशेष, सहिजने का पेड़ (दे ८, ३७; कप्प) ।

सोहग देखो सोभग (कप्प ३८ टी) ।

सोहग पुं [शोधक] बोबी, रजक (उप पृ २४१) । देखो सोहय = शोधक ।

सोहग न [सौभाग्य] १ सुभगता, लोक-प्रियता (श्रीप; प्रासू ६६) । २ पति-प्रियता (सुर ३, १८१; प्रासू ८५) । ३ सुन्दर भाग्य (उप पृ ४७; १०८) । °कटपकृत्स्न पुं [°कल्पयुद्ध] तप-विशेष (पत्र २७१) । 'गुलिया व्री [गुटिका] सौभाग्य-जनक मन्त्र-विशेष से संस्कृत गौली (सुपा ५६७) ।

सोहगंजण न [सौभाग्याञ्जन] सौभाग्य-जनक अंजन (सुपा ५६७) ।

सोहगिअ वि [सौभागित] भाग्य-शाली, सुन्दर भाग्यवाला (उप पृ ४७; १०८) ।

सोहण पुं [शोभन] १ एक प्रसिद्ध जैन मुनि (सम्मत्त ७५) । २ वि. शोभा-युक्त, सुन्दर (सुर १, १४७; ३, १८५; प्रासू १३२) । व्री. °णा, °णी (प्राकृ ४२) । °वर न [°वर] वेताव्य की उत्तर श्रेणि का एक विद्यावर-नगर (इक) ।

सोहण न [शोधन] १ शुद्धि, सफाई (उप ५६७ टी; सुज्ज १०, ६ टी; कप्प) । २ वि. शुद्धि-जनक (श्रा ६) ।

सोहणी व्री [दे] संमाजनी, झाड़ू (दे ८, १७) ।

सोहद न [सौहद] १ मित्रता । २ वन्धुता (अभि २१८; अचु ५-) ।

सोहम्म देखो सुधम्म, सुहम्म = सुधम्म (सम १६) ।

सोहम्म पुं [सौधर्म] प्रथम देवलोक (सम २; राय; अणु) । °कप्प पुं [°कल्प] पहला देवलोक, स्वर्ग-विशेष (महा) । °वइ पुं [°पति] प्रथम देवलोक का स्वामी; शक्रेन्द्र (सुपा ५१) । °वडिसय पुं [°वत्सक] एक देव-विमान (सम ८; २५; राय ५६) । °सामि पुं [°स्वामिन्] प्रथम देवलोक का इन्द्र (सुपा ५१) ।

सोहम्म° देखो सुहम्मा (महा) ।

सोहम्मण देखो सोहण = शोधन; 'रयणपि गुणुक्करिसं उवेइ सोहम्मणणुणेणं' (कम्म ६, १ टी) ।

सोहम्मिद पुं [सौधर्मेन्द्र] शक्र, प्रथम देवलोक का स्वामी (महा) ।

सोहम्मिय वि [सौधर्मिक] सौधर्म-देवलोक का (सण) ।

सोहय वि [शोधक] शुद्धि-कर्ता, सफाई करनेवाला (विसे ११६६) । देखो सोहग = शोधक ।

सोहय देखो सोहग = शोधक (उप पृ २१६) ।

सोहल वि [शोभावत्] शोभा-युक्त (सण-भवि) ।

सोहा स्त्री [शोभा] १ दौलत, चमक (से १, ४८; कुमा; सुपा ३१; रंभा)। २ छन्द-विशेष (पिंग)।

सोहाव सक [शोधय्] सफा कराना। सोहावेह (स ५१६)।

सोहाचिय वि [शोधित] साफ कराया हुआ (स ६२)।

सोहि स्त्री [शुद्धि, शोधि] १ निर्मलता (राया १, ५—पत्र १०५; संवोध १२)। २ आलोचना, प्रायश्चित्त (शोध ७६१; ७६७; आचा)।

सोहि वि [शोधिन्] शुद्धि-कर्ता (श्रीप)।

सोहि वि [शोभिन्] शोभनेवाला (संवोध ४८; कप्पू; भवि)। स्त्री. °णी (नाट—रत्ना १३)।

सोहि पुंस्त्री [दे] १ भूत काल। २ भविष्य काल (दे ८, ५८)।

सोहिअ न [दे] पिष्ट, आटा, चावल आदि का चूर्ण (पड्)।

सोहिअ वि [शोभित] शोभा-युक्त (सुर ३, ७२; महा; श्रीप; भग)।

सोहिअ वि [शोधित] शुद्ध किया हुआ (परह २, १; भग)।

सोहिद् देखो सोहद् (नाट—शकु १०६)।

सोहिर वि [शोभित्] शोभनेवाला (गा ५११)।

सोहिल्ल वि [शोभावत्] शोभा-युक्त (गा ५४७; सुर ३, ११; ८, १०८; हे २, १५६; चंड; भवि; सण)।

सौअरिअ देखो सोअरिअ = सौदर्य (चंड)।

सौअरिअ न [सौन्दर्य] सुन्दरता (हे १, १)।

सौह देखो सउह = सौघ (रविम ५६; नाट—मालती १३६)।

°रस देखो स = स्व (गा २२६)।

°रसास देखो सास = धास (गा ८५६)।

°रिसरी देखो सिसरी = श्री (गा ६७७)।

°रसेअ देखो सेअ = स्वेद (अभि २१०)।

॥ इअ सिरिपाइअसदमहणवम्मि सयाराइसदसंकलणो  
सत्ततीसइमो तरंगो समत्तो ॥

## ह

ह पुं [ह] १ कंठ-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्राप; प्राणा)। २ अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय—संवोधन; 'सि-भ्रिक्खु गिलाइ, से हंद ह एं तस्साहरह' (आचा २, १, ११, १; २; पि २७५)। ३ नियोग। ४ क्षेप, निन्दा। ५ निग्रह। ६ प्रसिद्धि। ७ पादपूति (हे २, २१७)।

ह देखो हा = अ. (हे १, ६७)।

हइ स्त्री [हति] हतन, वध, मारण (आ २७)।

हं अ. [हम्] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ क्रोध (उवा)। २ असम्मति (स्वप्न २१)।

हंजय पुं [दे] शरीर-स्पर्श-पूर्वक किया जाता शपथ—सौगंध (दे ८, ६१)।

हंजे अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ दासी का आह्वान (हे ४, २८१; कुमा; पिंग)। २ सबी का आमन्त्रण (स ६२२; सम्मत १७२)।

हंड देखो खंड (हमीर १७)।

हंडण देखो भंडण (गा ६१२; पि ५८८)।  
हंत देखो हंता (वर्मसं २०२; राय २६; सण; कप्पू; पि २७५)।

हंतव्य } देखो हण।  
हंता }

हंता अ [हन्त] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ अभ्युपगम, स्वीकार (उवा; श्रीप; भग; तंडु १४; अणु १६०; राया १, १—पत्र ७४)। २ कोमल आमन्त्रण (भग; अणु १६०; तंडु १४; श्रीप)। ३ वाक्य का आरम्भ। ४ प्रत्यवधारण। ५ संप्रेषण। ६ खेद। ७ निर्देश (राज)। ८ हर्ष। ९ अनुकम्पा (राय)। १० सत्य (उवा)।

हंतु वि [हन्तु] मारनेवाला (आचा; भग; पठम ५१, १६; ७३, १६; विसे २६१७)।

हंतूण देखो हण।

हंदि अ. 'ग्रहण करो' इस अर्थ का सूचक अव्यय (हे २, १८१; कुमा; आचा २, १, ११, १; २; पि २७५)।

हंदि अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ विपाद, खेद। २ विकल्प। ३ परचात्ताप। ४ निश्चय। ५ सत्य। ६ 'लो', 'ग्रहण करो' (पाग्र; हे २, १८०; पड्; कुमा)। ७ आमन्त्रण, संवोधन (पिड २१०; वर्मसं ४४)। ८ उपदर्शन (पंचा ३, १२; दसनि ३, ३७)।

हंमो देखो हंमो (सुर ११, २३४; आचा-सूत्र २, २, ८१)।

हंस देखो हस्स = हस्व (प्राप्र)।

हंस पुं [हंस] १ पक्षि-विशेष (राया १, १—पत्र ५३; परह १, १—पत्र ८; कुमा; प्रासु १३; १६६)। २ रजक, बोवो; 'वत्य-घोवा हवंति हंसा वा' (सूत्र १, ४, २, १७)। ३ संन्यासि-विशेष (से १, २६; श्रीप)। ४ सूर्य, रवि (सिरि ५४७)। ५ मणि-विशेष, हंसगर्भ नामक रत्न की एक-जाति (परण १—पत्र २६)। ६ छन्द का एक भेद (पिंग)। ७ निर्लोभी राजा। ८

विष्णु । १६ परमेस्वर, परमात्मा । १० मत्सर ।  
११ मन्त्र-विशेष । १२ शरीर-स्थित वायु की  
चेष्टा-विशेष । १३ भेद पर्वत । १४ शिव,  
महादेव । १५ अथ की एक जाति । १६  
श्रेष्ठ । १७ अगुमा । १८ विशुद्ध । १९ मन्त्र-  
वर्ण-विशेष (ह २, १८२) । २० पतंग,  
चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष (अणु ३४) । १ गन्ध  
पुं [°भं] रत्न की एक जाति (आपा १,  
१—पत्र ३१; १७—पत्र २२६; कर्म;  
उत्त ३६, ७७) । १ तूली स्त्री [°तूली]  
विद्योने की गद्दी (सुर ३, १८८; ६,  
१२८) । १ दीव पुं [°द्वीप] द्वीप-विशेष  
(पञ्च ५४, ५५) । १ लक्षण वि [°लक्षण]  
१ युक्त, सफेद (श्रत) । २ विशद, निर्मल  
(जं २) ।

हंसय पुंन [हंसक] नूपुर (पात्र; सुपा  
३२७) ।

हंसल पुं [हंस] आभूषण-विशेष (अणु) ।  
देखो हांसल ।

हंसी स्त्री [हंसी] १ हंस पक्षी की मादा  
(पात्र) । २ छन्द का एक भेद (पिंग) ।

हंसुलय पुं [हंस] अथ की एक उत्तम जाति  
(सम्मत २१६) ।

हंहो अ [हंहो] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ संवोधन, आमन्त्रण (सुत्र २३, १; धर्मवि  
५५; उप ५६७ टी) । २ तिरस्कार (धम्म  
११ टी) । ३ दर्प, गर्व । ४ दंभ, कपट । ५  
प्रश्न (हे २, २१७) ।

हकुव न [हकुव] फल-विशेष (अनु ५) ।

हक सक् [नि + पिध्] नियेष करना,  
निवारण करना । हककइ (हे ४, १३४;  
पड्) । वक्र. हकमाण (कुमा) ।

हक सक् [हं] हांकना—१ पुकारना, आह्वान  
करना । २ प्रेरणा करना । ३ खदेड़ना ।  
हककई (सुपा १८३) । वक्र. हकंत (सुर  
१५, २०३; सुपा ५३८) । कवक्र. हकिकजंत  
(सुपा २५३) । संक्र. हकिय, हकिकं,  
हकिकण (सुर २, २३१; सुपा २४८;  
महा) ।

हका स्त्री [हं] हांक—१ पुकार, बुलाहट,  
आह्वान । २ प्रेरणा; 'बनलो धुरम्मि जुतो न

सहइ उच्चारियं हकं' (वज्जा ३८; पिंग;  
सुपा १५१; सिरि ४१०; उप पृ ७८) ।

हकार सक् [आ + कारथ्] पुकारना,  
आह्वान करना, बुलाना । हकारइ (महा;  
भवि) । हकारह (सुपा १८८) । कर्म,  
हकारिजंतु (सुर १, १२६; सुपा २६२) ।  
वक्र. हकारेण, हकारेमाण (सुर ३, ६८;  
साया १, १८—पत्र २४८) । संक्र. हका  
रिऊण, हकारेऊण (कुप्र ५; सुपा २२०) ।  
प्रयो. हकारावइ (सुपा ११८) ।

हकार सक् [हं] ऊँच फैलाना । कर्म. हका-  
रिजंति (सिरि ४२४) ।

हकार पुं [हकार] १ मुगलिकों के समय की  
एक दाइतीति (ठा ७—पत्र ३६८) । २  
हाँकने की आवाज (सुर १, २४६) ।

हकारण न [आकारण] आह्वान (स २६४;  
कुप्र ११६) ।

हकारिअ वि [आकारित] आहूत (सुपा  
२६६; शोध ६२२ टी; महा) ।

हकिअ वि [हं] हाँका हुआ—१ खदेड़ा  
हुआ; 'हकिअ करो' (महा); 'जेण तपो  
पानत्वाइतेणनेणावि हकिअ सम्मं' (साधं  
१०३) । २ आहूत (कुप्र १४१) । ३ प्रेरित  
(सुपा २६१) । ४ उन्नत (पड्) ।

हकिअ वि [निपिद्ध] निवारित (कुमा) ।

हकोद्ध वि [हं] अनिलपित (दे ८, ६०) ।

हकुवुत्त वि [हं] उत्पाटित, उठाया हुआ,  
उत्थित (दे ८, ६०; पत्रम ११७, ५; पात्र;  
स ६१४) ।

हकुवुत्त सक् [उत् + क्षिप्] १ ऊँचा करना,  
उठाना । २ फेंकना । हकुवुत्तइ (हे ४, १४४);  
'तणुपरदेहो देवो हकुवुत्तइ व कि महासिलं'  
(विसे ६६५) ।

हकुवुत्तिय वि [उत्थित] उत्पाटित (कुमा) ।  
हचा स्त्री [हत्या] वध, घात (कुप्र १५७;  
धर्मवि १७) ।

हट्ट पुं [हट्ट] १ आषाण, बाजार (गा ७६४;  
भवि) । २ दूकान (सुपा ११; १८६) । १ गाई,  
गायी स्त्री [°गर्वा] व्यभिचारिणी स्त्री,  
कुलदा (सुपा ३०१; ३०२) ।

हट्टिगा स्त्री [हट्टिका] छोटी दूकान (मोह  
हट्टी ६२; सुपा १८६) ।

हट्ट वि [हट्ट] १ हर्ष-मुक्त, प्रानन्दित । २  
विस्मित (उवा; विपा १, १; शीन; राय) ।  
३ नीरोग, रोग-रहित; 'हट्टेण मिलाणेण थ  
अमुगतवो अमुगदिग्गिनि नियमेणु काययो'  
(पय ४—गाया १६२) । ४ शक्तिशाली  
जवान, समर्थ तक्षण (अणु) । ५ हट्ट, मन-  
वृत्त (शोध ७५) ।

हट्ट देखो भट्ट (गा ६५४ प्र) ।

हट्टमहट्ट वि [हं] १ नीरोग । २ दश, चतुर  
(दे ८, ६५) । ३ स्वत्व युवा (पड्) ।

हट्ट वि [हं. हट्ट] जिसका दख किया गया  
हो वइ (दे ८, ५६; कर्म) ।

हट्टक } (मा) देखो हिअय = हट्टय (प्राकृ  
हट्टक } १०५; १०२; प्राण; नाट—मृच्छ  
६२; वि ५०; १५०) ।

हट्टप्य } पुं [हं] १ पाय-विशेष, द्रम्य  
हट्टप्य } आदि का पात्र । २ ताम्बूल आदि  
का पात्र (श्रीन) । ३ आभरण का करण्डक  
(साया १, १ टी—पत्र ५७; ५८) ।

हट्टहट्ट पुं [हं] १ घनुराण, प्रेम (दे ८, ७४;  
पड्) । २ ताप (दे ८, ७४) ।

हट्टहट्ट पुं [हट्टहट्ट] 'हट्ट-हट्ट' आवाज (सिरि  
७७६) ।

हट्टाहट्ट वि [हं] प्रत्यय, यदन्त (विपा १,  
१—पत्र ५ साया १, १६—पत्र १६६) ।

हट्टि पुं [हट्टि] काठ का बन्धन-विशेष, काठ  
की बंधी (साया १, २—पत्र ८६; विपा १,  
६—पत्र ६६; शोध कम्म १, २३) ।

हट्टु न [हं] हाड़, अस्थि (दे ८, ५६; तंडु  
३८; सुपा ३५५; श्रु १००) ।

हट्ट पुं [हट्ट] १ बलात्कार (पात्र, परह १,  
३—पत्र ४४; दे १, १६) । २ जल में होने-  
वाली वनस्पति-विशेष, कुम्भी, जलकुम्भी,  
काई; 'वायाइडो व्य हट्टो अट्टिअप्पा भवि-  
स्सति' (उत्त २२, ४४; नूम २, ३, १८;  
परण १—पत्र ३४) ।

हण सक् [हण] १ बध करना । २ जाना;  
गति करना । हणइ, हणिया (कुमा; आचा) ।  
भुका. हणितु. हणीअ (आचा; कुमा) ।  
भवि, हणित्ठी (कुमा) । कर्म. हणि-  
जइ, हणिजणइ, हणणइ, हणणइ, हम्मइ  
(हे ४, २४४; कुमा; प्रासू १६; आचा) ।

भवि. हन्निहिइ, हणहिइ (हे ४, २४४) ।  
वक्र. हणंत (आचा; कुमा) । कवक्र. हण्णु,  
हणिज्जमाण, हम्मंत, हम्ममाण (सूत्र १,  
२, २, ५; आ १४; मुर १, ६६; विपा १,  
२—पत्र २४; पि ५४०) । संक्र. हंता,  
हंतूण, हंतूणां, हत्तूण, हणिज्जण, हणिअ  
(आचा; प्राप् १४७; प्राक ३४; नाट) ।  
हेक्र. हंतुं, हणिडं (महा; उप पृ ४८) ।  
क. हंतव्य (जे ३, ३; हे ४, २४४;  
आचा) ।

हण सक [श्रु] सुनना । हणइ (हे ४, ५८) ।  
हण वि [दे] दूर, अनिकट (दे ८, ५६) ।  
हण देखो हणण; 'हणदहणपयणमारण—'  
(पउम ८, २३२) ।

हण देखो घण = वन (गा ७१५; ८०१) ।  
हणण न [हनन] ? मारण, वध, घात (सुपा  
२४५; सण) । २ विनाय (परह २, ५—  
पत्र १४८) । ३ वि. वध-कर्ता । वी. ँणी  
(कुप्र २२) ।

हणिअ वि [हत] जितका वध किया गया हो  
वह (आ २७; कुमा; प्राप् १६; पिग) ।

हणिअ देखो हण = हन् ।

हणिअ वि [श्रुत] सुना हुआ (कुमा) ।

हणिद देखो हिणिद (गा ६६३) ।

हणिर वि [हन्त] वध करनेवाला (सुपा  
६०७) ।

हणिहणि } अ [अहन्यहनि] ? प्रतिदिन,  
हणिहणि } हेमेशा (परह २, ३—पत्र  
१२२) । २ सर्वथा, सब तरह से (परह २,  
५—पत्र १४८) ।

हणु वि [दे] सावशेष, बाकी बचा हुआ (दे  
८, ५६; सण) ।

हणु पुं व्री [हनु] चिबुक, होठ के नीचे का  
भाग, ठुड़ी, ठोड़ी, दाढ़ी (आचा; परह १,  
४—पत्र ७८) । अ, म, मंत, थंत पुं  
[मत्] हनुमान, रामचन्द्रजी का एक  
प्रख्यात अनुचर, पवन तथा अञ्जनासुन्दरी  
का पुत्र (पउम १, ५६; १७, १२१; ४७,  
२६; हे २, १४६; कुमा; प्राप्र; पउम १६,  
१५; ५६, २१) । र्ह, र्ह न [र्ह]

नगर-विशेष (पउम १, ६१; १७, ११८) ।  
व, वंत देखो म (पउम ४७, २५; ५०,  
६; उप पृ ३७६) ।

हणुया व्री [हनुका] ? कुड़ी, ठोड़ी, दाढ़ी  
(अनु ५) । २ वंश-विशेष दाढ़ा-विशेष  
(उवा) ।

हणू व्री [हन्तू] देखो हणु (पि ३६८; ३६६) ।

हण्णु देखो हण = हन् ।

हत्त देखो ह्य = हत (पि १६४; ५६५) ।

हत्तरि देखो सत्तरि (पि २६४) ।

हत्तु वि [हर्तु] हरण-कर्ता (प्राक २०) ।

हत्तूण देखो हण = हन् ।

हत्थ वि [दे] ? शीघ्र, जल्दी करनेवाला (दे  
८, ५६) । २ क्रि. जल्दी (ओप) ।

हत्थ पुंन [हस्त] ? हाथ; 'अत्यिच्छेण  
हत्थं पसारियं जस्स करहेण' (वज्जा १०६;  
आचा; कप्प; कुमा; दं ६) । २ पुं. नक्षत्र-  
विशेष (सम १०; १७) । ३ चौबीस अंगुल  
का एक परिमाण । ४ हाथी की सूंड (हे  
२, ४५; प्राप्र) । ५ एक जैन मुनि (कप्प) ।

कप्प न [कल्प] नगर-विशेष (शाया १,  
१६—पत्र २२६; पिड ४६१) । कम्म न  
[कर्मन्] हस्त-क्रिया, दुस्चेष्टा-विशेष (सूत्र  
१, ६, १७; ठा ३, ४—पत्र १६२; सम  
३६; कस) । ताड, ताल पुं [ताड]

हाथ से ताड़न (राज; कस ४, ३ टि) । पहे-  
लिअ वीन [प्रहेलिक] संख्या-विशेष,  
शेषप्रकल्पित को चौरासी लाख से गुणने पर  
जो संख्या लघ्व हो वह (इक) । प्पाहुड न  
[प्राभृत] हाथ से दिया हुआ उपहार (दे  
८, ७३) । मालय न [मालक] आभरण-  
विशेष (ओप) । लहुत्तण न [लघुत्व] ?  
हस्त-लाघव । २ चोरी (परह १, ३—पत्र  
४३) । सीस न [शीर्ष] नगर-विशेष  
(शाया १, १६—पत्र २०८) । भरण न  
[भरण] हाथ का गहना (भग) । याल  
पुं [याड] देखो ताड (कस) । ल्यं  
पुं [ल्यन्] हाथ का सहारा, मदद (से  
१, १६; मुर ४, ७१; कस) ।

हत्थंकर पुं [हस्तङ्कर] वनस्पति-विशेष  
(आचा २, १०, २) ।

हत्थंहु पुंन [हस्तान्हुक] हाथ बांधने  
हत्थंहुय } का काठ आदि का बन्धन-विशेष  
(पिड ५७३, विपा १, ६—पत्र ६६) ।

हत्थच्छुहणी व्री [दे] नव-वधू, नवोद्गा (दे  
८, ६५) ।

हत्थड (अप) देखो हत्थ (हे ४, ४४५; पि  
५६६) ।

हत्थय न [हस्तक] कलाप-समूह (दश-  
अगत्यं सूत्र ५१ पत्र ८१) ।

हत्थल पुं [दे] ? ऋडा के लिए हाथ में ली  
हुई चीज । २ वि. हस्त-लोल, चञ्चल हाथ-  
वाला (दे ८, ७३) ।

हत्थल वि [हस्तल] ? खराब हाथवाला ।  
२ पुं. चोर, तस्कर (परह १, ३—पत्र  
४३) ।

हत्थलिज्ज देखो हत्थिलिज्ज (राज) ।

हत्थल्ल वि [दे] ऋडा से हाथ में लिया हुआ  
(दे ८, ६०) ।

हत्थल्लिअ वि [दे] हस्तापसारित, हाथ से  
हटाया हुआ (दे ८, ६४) ।

हत्थली व्री [दे] हस्त-वृत्ती, हाथ में स्थित  
आसन-विशेष (दे ८, ६१) ।

हत्थार न [दे] सहायता, मदद (दे ८, ६०) ।

हत्थारोह पुं [हत्थारोह] हस्तिपक, हाथों  
का महावत (विपा १, २—पत्र २३) ।

हत्थावार न [दे] सहायता, मदद (भवि) ।

हत्थाहत्थि व्री [हस्ताहस्तिका] हाथोहाथ-  
एक हाथ से दूसरे हाथ (गा १७६) ।

हत्थाहत्थि अ. ऊपर देखो (गा २२६; ५८१;  
पुष्प ४६३) ।

हत्थि पुं व्री [हस्तिन्] ? हाथी (गा ११६;  
कुमा; अमि १८७) । वी. ँणी (शाया १,  
१—पत्र ६३) । २ पुं. नृप-विशेष (ती १४) ।

आरोह पुं [आरोह] हाथों का महावत  
(वमंवि १६) । कण्ण, कञ्ज पुं [कर्ण]

२ एक अन्तर्द्वीप । २ वि. उसका निवासी  
मनुष्य (इक ठा ४, २—पत्र २२६) ।

कप्प न [कल्प] देखो हत्थ-कप्प  
(राज) । गुल्लगुलाइय न [गुल्लगुलायित]

हाथों का शब्द-विशेष (राय) । गागपुर न  
[नागपुर] नगर-विशेष, हस्तिनापुर (उप  
६४८ टी; सण) । तावस पुं [तापस]

वौद्ध साधु-विशेष, हाथी को मारकर उसके मांस से जीवन-निर्वाह करने के सिद्धान्तवाला संन्यासी (श्रौप; सूयनि १६०)। °नायपुर देखो °नागपुर (भवि)। °पाल पुं [°पाल] भगवान् महावीर के समय का पावापुरी का एक राजा (कप्प)। °पिप्पली स्त्री [°पिप्पली] वनस्पति-विशेष (उत्त ३४, ११)। °मुह पुं [°मुख] १ एक अन्तर्द्वीप। २ वि. उसका निवासी मनुष्य (ठा ४, २—पत्र २२६; इक)। °रयण न [°रत्न] उत्तम हाथी (श्रौप)। °राय पुं [°राज] उत्तम हाथी (सुपा ४२६)। °वाउय पुं [°व्यापृत] महावत् (श्रौप)। °वाल देखो °पाल (कप्प)। °विजय न [°विजय] वैताल्य की उत्तर श्रेणि का एक विद्याघर-नगर (इक)। °सीस न [°शीर्ष] एक नगर, जो राजा दमवन्त की राजधानी थी (उप ६४८ टी)। °सुंडिया देखो °सोंडिगा (राज)। °सोंड पुं [°शौण्ड] त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष (परण १—पत्र ४५)। °सोंडिगा स्त्री [°शुण्डिका] आसन-विशेष (ठा ५, १ टी—पत्र २६६)। हृत्थिअचक्खु न [दे] वक्र अवलोकन (दे ८, ६५)।

हृत्थिच्चग वि [हृत्तीय, हृत्त्य] हाथे का, हाथ-संबन्धी (पिड ४२४)।

हृत्थिणउर न [हृत्तिनापुर] नगर-विशेष  
हृत्थिणपुर (ठा १०—पत्र ४७७; सुर  
हृत्थिणाउर १०, १५५; महा; गउड; सुर  
हृत्थिणापुर १, ६४; नाट—शकु ७४;  
अंत)।

हृत्थिणी देखो हृत्थि।

हृत्थिमह पुं [दे] इन्द्र-हस्ती, ऐरावण हाथी (दे ८, ६३)।

हृत्थियार न [दे] १ हथियार, शस्त्र (धर्मसं १०२२; ११०४; भवि)। २ युद्ध, लड़ाई; 'ता उद्धेहि संपयं करेहि हृत्थियारं ति', 'दिव, कोइसं देवेण सह हृत्थियारकरणं' (स ६३७; ६३८)।

हृत्थिलिज्ज न [हृत्तिलीय] एक जैन-मुनि-कुल (कप्प)।

हृत्थिवय पुं [दे] ग्रह-भेद (दे ८, ६३)।

हृत्थिहरिह पुं [दे] वेप (दे ८, ६४)।

हृत्थुत्तरा स्त्री [हृत्तोत्तरा] उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र (कप्प)।

हृत्थुल्ल देखो हृत्थ (हे २, १६४; पड)।

हृत्थोडी स्त्री [दे] १ हस्ताभरण, हाथ का आभूषण। २ हस्त-प्राप्त, हाथ से दिया जाता उपहार (दे ८, ७२)।

हृत्थलेव पुं [दे] हस्त-ग्रहण, पाणि-ग्रहण (सिरि १५८)।

हृद देखो हय = हत (प्राप्र; प्राकृ १२)।

हृद पुं [दे] बालक का मल-मूत्रादि (पिड हृद ४७१)।

हृद्वय पुं [दे] हास, विकास (दे ८, ६२)।

हृद्वि अ [हा धिक्] १ खेद। २ अनुताप हृद्वी (प्राकृ ७६; पड; स्वप्न ६१; नाट—शकु ६६; हे २, १६२)।

हमार (अप) वि [अस्मदीय] हमारा, हमसे संबन्ध रखनेवाला (पिग)।

हमिर देखो भमिर (पि १८८)।

हम्म सक [हन्] वच करना। हम्मइ (हे ४, २४४; कुमा; संसि ३४; प्राकृ ६८)।

हम्म सक [हम्म] जाना। हम्मइ (हे ४, १६२)।

हम्म न [हर्म्य] क्रीड़ा-गृह (से ६, ४३)।

हम्म° देखो हण = हन्।

हम्मर देखो हमार (पिन)।

हम्मिअ वि [हम्मिअ] गत, गया हुआ (स ७४३)।

हम्मिअ न [दे. हर्म्य] गृह, प्रासाद, महल (दे ८, ६२; पाप्र; सुर ६, १५०; आचा २, २, १, १०)।

हम्मीर पुं [हम्मीर] विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का एक मुसलमान राजा (ती ५; हम्मीर २७; पिन)।

हय वि [हत्त] जो मारा गया हो वह (श्रौप; से २, ११; महा)। °माकोड पुं [°मत्कोट] एक विद्याघर-नरेश (पउम १०, २०)। °स वि [°श] निराश (पउम ६१, ७४; गा २८१; हे १, २०६; २, १६५; उव)।

हय पुं [हय] अथ, घोड़ा (श्रौप; से २, ११; कुमा)। °कंठ पुं [°कण्ठ] रत्न-विशेष, अथ के कंठ जितना बड़ा रत्न (राय ६७)। °कण्ण, °कण्ण पुं [°कर्ण] १ एक अन्तर्द्वीप।

२ वि. उसका निवासी मनुष्य (इक; ठा ४, २—पत्र २२६)। ३ एक अनायं देश (पव २७४)। °मुह पुं [°मुख] १ एक अन्तर्द्वीप (इक)। २ एक अनायं देश (पव २७४)। हय देखो हिअ = हत (महा; भवि; राय ४४)।

हय देखो हर = द्रह। °पोंडरीय पुं [°पुण्डरीक] पवि-विशेष (परह १, १—पत्र ८)।

°हय देखो भय (गा ३८०)।

हयमार पुं [दे. हतमार] कणेर का गाछ (पाप्र)।

हर सक [हृ] १ हरण करना, छीनना। २ प्रसन्न करना, खुश करना। हरइ (हे ४, २३४; उव; महा)। कर्म. हरिजइ, हीरइ, हरीअइ, हीरिअइ (हे ४, २५०; घावा १५७)। वक्र. हरंत (पि ३६७)। कवक. हीरंत, हीरमाण (गा १०५; सुर १२, १११; सुपा ६३५)। संक. हरिअण (महा)। हेक. हरिउं (महा)। क. हिज्ज, हेज्ज (पिड ४४६; ४५३)।

हर सक [ग्रह] ग्रहण करना, लेना। हरइ (हे ४, २०६)।

हर सक [हृद] आवाज करना। °हरइ (से ५, ७१)।

हर पुं [हर] १ महादेव, शंकर (सुपा ३६३, कुमा; पड; हे १, ५१; गा ६८७; ७६४)। २ छन्द-विशेष (पिग)। °मेहल न [°मेखल] कला-विशेष (सिरि ५६)। °वलहा स्त्री [°वलभा] गौरी, पार्वती (सुपा ५९७)।

हर पुं [हृद] द्रह, बड़ा जलाशय (से ६, ६५)।

हर देखो घर = गृह; 'ता वच पहिय मा मग्ग वासयं एव मज्ज हरे' (वज्जा १००; कुमा; सुपा ३६३; हे २, १४४)।

°हर देखो धर = धृ। क. °हरेअव्व (से ६, ३)।

°हर देखो भर = भर (पउम १००, ५४; सुपा ४३२)।

°हर वि [°हर] हरण-कर्ता (सण)।

°हर वि [°घर] धारण करनेवाला (गा ३१५; ३६५)।

हरअई } ली [हरीतकी] ? हरे का गाछ ।  
हरउई } २ फल-विशेष, हरे (पड; हे १,  
६६; कुमा) ।

हरण न [हरण] ? छीनना (सुपा १८; ४३६;  
कुमा) । २ वि. छीननेवाला (कुप्र ११४;  
धर्मवि ३) ।

हरण न [ग्रहण] स्वीकार (कुमा) ।

हरण न [स्मरण] स्मृति; याद;  
'अलिअकुविअपि कअमंतुअं  
मं जेसु मुअअ अणुणोतो ।  
ताय दिअहाण हरेणे रअमि,  
ए जणो अहं कुविअ'  
(गा ६४१) ।

हरण देखो भरण (गा ५२७ अ) ।

हरतणु पुं [हरतनु] खेत में बोये हुए गेहूँ,  
जो आदि के बालों पर होता जल-बिन्दु  
(कप्प; चेइय ३७३; जी ५) ।

हरद देखो हरय (भग) ।

हरपच्चुअ वि [दे] ? स्मृत, याद किया  
हुआ । २ नाम के उद्देश से दिया हुआ (दे  
८, ७४) ।

हरय पुं [हुद] बड़ा जलाशय, द्रव (आचा;  
भग; परह २, ५—पत्र १४६; उत १२,  
४५; ४६; हे २, १२०) ।

हरहरा ली [दे] युक्त प्रसंग, योग्य अवसर,  
उचित प्रस्ताव;

'निदूमगं च गामं महिला-  
धूमं च सुरणयं दट्टुं ।  
नीयं च काया शीलित  
जाया निक्खस्स हरहरा'  
(विसे २०६४) ।

हरहराइय न [हरहरायित] 'हर हर' आवाज  
(परह १, ३—पत्र ४५) ।

हराविअ वि [हारित] हरामा हुआ, जिसका  
परामत्र किया गया हो वह (हे ४, ४०६) ।

हरि पुं [दे. हरि] शुक, तोता (दे ८, ५६) ।

हरि पुं [हरि] ? विद्युत्कुमार-देवों की दक्षिण  
दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८४) । २  
एक महागह (ठा २, ३—पत्र ७८) । ३  
इन्द्र, देव-राज (कुमा; कुप्र २३; सम्मत

२२६; अ ८६) । विष्णु, श्रीकृष्ण (गा  
४०६; ४११; सुपा १४३) । ५ रामचन्द्र  
(से ६, ३१) । ६ सिंह, मुग्ध (से ६, ३१;  
कुमा; कुप्र ३४६) । ७ वानर, वन्दर (से ४,  
२५; ६, २२; धर्मवि ५१; सम्मत २२२) ।  
८ अश्व, घोड़ा (उप १०३१ टी; ती ८; कुप्र  
२३; सुख ४, ६) । ९ भारत के साथ जैन  
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पउम ८५, ४) ।  
१० ज्योतिषशास्त्र-प्रसिद्ध एक योग; 'गुहहरि-  
विट्ठे गंडविड्वाए' (संघोष ५४) । ११  
छन्द का एक भेद (पिंग) । १२ सर्प, साँप ।  
१३ भेक, मण्डूक । १४ चन्द्र । १५ सूर्य ।  
१६ वायु, पवन । १७ यम, जमराज । १८  
हर, महादेव । १९ ब्रह्मा । २० किरण ।  
२१ वर्ष-विशेष । २२ मयूर, मोर । २३  
कोकिल, कोयल । २४ मत्तुहरि नामक एक  
विद्वान् । २५ पीला रंग । २६ पिंगल वर्ण ।  
२७ हरा रंग । २८ वि. पीत वर्णवाला ।  
२९ पिंगल वर्णवाला (हे ३, ३८) । ३०  
हरा वर्णवाला; 'हरिमणिसरिच्छणिएअहई'  
(अञ्चु ३२) । ३१ पुंन. महाहिमवंत पर्वत  
का एक शिखर (ठा ८—पत्र ४३६) । ३२  
विद्युत्प्रभ पर्वत का एक शिखर (ठा ६; इक) ।  
३३ निपव पर्वत का एक शिखर (ठा ६—  
पत्र ४५४; इक) । ३४ हरिवर्ष-क्षेत्र का  
मनुष्य-विशेष (कप्प) । अंद पुं [अन्द्र]  
स्वनाम प्रसिद्ध एक राजा (हे २, ८७; पड;  
गउड; कुमा) । अंदण न [चन्दन] ?  
चन्दन की एक जाति (से ७, ३७; गउड;  
सुर १६, १४) । २ पुं. एक तरह का कल्प-  
वृक्ष (सुपा ८७; गउड) । देखो चंदण ।  
अणण देखो अंद (संकि १७) । आल  
पुंन [ताल] ? पीत वर्णवाली उपवासु-  
विशेष, हरताल (याया १, १—पत्र २४;  
जी ३; पव १५५; कुमा; उत ३४, ८; ३६,  
७५) । २ पुं. पक्षि-विशेष (हे २, १२१) ।  
देखो ताल । एस पुं [केश] ? चंडाल  
(श्रीघ ७६६; सुख ६, १; महा) । २ एक  
चण्डाल मुनि (उत १२) । एसवल पुं  
[केशवल] चण्डालकुलोत्पन्न एक मुनि  
(उव; उत १२, १) । एसिज्ज वि  
[केशीय] ? चण्डाल-संबन्धी । २ हरि-

केशवल नामक मुनि का (उत १२) । कंखि  
न [कंखिखन्] नगर-विशेष (ती २७) ।  
कंत पुं [कान्त] विद्युत्कुमार देवों की  
दक्षिण दिशा का इन्द्र (इक) । कंतपवाय,  
कंतप्पवाय पुं [कान्ताप्रपात] एक द्रव  
(ठा २, ३—पत्र ७२; टी—पत्र ७५) ।  
कंता ली [कान्ता] ? एक महा-नदी (ठा  
२, ३—पत्र ७२; सम २७; इक) । २  
महाहिमवान् पर्वत का एक शिखर (इक; ठा  
८—पत्र ४३६) । केलि पुं [केलि]  
भारतीय देश-विशेष (कप्प) । कंसवल देखो  
एसवल (कुलक ३१) । कंसि पुं  
[केशिन्] एक जैन मुनि (अ १४०) ।  
गीअ न [गीत] छन्द का एक भेद (पिंग) ।  
गीअ पुं [गीअ] राजस-वंश का एक  
राजा (पउम ५, २६०) । चंद पुं [चन्द्र]  
? विद्यावर-वंश का एक राजा (पउम ५,  
४४) । २ एक विद्यावर-कुमार (महा) ।  
चंदण पुं [चन्दन] ? एक अन्तर्द्व जैन  
मुनि (अंत १८) । २ देखो अंदण (प्रासू  
१४५; स ३४६) । णयर न [नगर]  
वैताल्य की दक्षिण-श्रेणि में स्थित एक  
विद्याघर-नगर (इक) । ताल पुं [ताल]  
द्वीप-विशेष (इक) । देखो आल । दास  
पुं [दास] एक वणिक् का नाम (पउम ५,  
८३) । धणु न [धनुप] इन्द्र-धनुष  
(उप ५६७ टी) । पुरी ली [पुरी] इन्द्र-  
पुरी, अमरावती, स्वर्ग (सुपा ६३५) । भद्र  
पुं [भद्र] एक सुविख्यात जैन आचार्य तथा  
ग्रन्थकार (चेइय ३४; उप १०३६; सुपा १) ।  
मंथ पुं [मन्थ] धान्य-विशेष, काला चना  
(था १८; पव १५६; संघोष ४३) । मेला  
ली [मेला] वृक्ष-विशेष (श्रीघ) । वइ पुं  
[पति] वानर-पति, सुग्रीव (से १, १६) ।  
वंस पुं [वंश] एक सुप्रसिद्ध क्षत्रिय-कुल  
(कप्प, पउम ५, २) । वस्स; वास पुं  
[वर्ष] ? क्षेत्र-विशेष (अणु १६१; ठा २,  
३—पत्र ६७; सम १२; पउम १०२, १०६;  
इक) । २ पुंन. महाहिमवान् पर्वत का एक  
शिखर (ठा ८—पत्र ४३६) । ३ निपव पर्वत  
का एक शिखर (ठा ६—पत्र ४५४; इक) ।  
वाहण पुं [वाहन] ? मथुरा का एक



राजा (पद्य १२, २) । २ नन्दोत्तर शीघ्र के अपराध का शविष्ठाता देव (जीव ३, ४) ।  
 °सह देखो °सह (राज) । °सेण पुं [°पेण]  
 १ दरवां चक्रवर्ती राजा (सम ६८; १५२) ।  
 २ नगवान् नमितायजी का प्रथम श्रावक  
 (विचार ३७८) । °सह पुं [°सह] १  
 विद्युत्कुमार-देवों की दक्षिण दिशा का इन्द्र  
 (ठा २, ३—पत्र ८४; इक) । माल्यवन्त  
 पर्वत का एक शिखर (ठा ६—पत्र ४५४) ।

हरि पुं [ हरित् ] १ हरा रंग, वर्ण-विशेष ।  
 २ वि. हरा रंगवाला (शाया १, १६ पत्र  
 २२८) । ३ लो. एक महा-नदी (सम २७;  
 इक; ठा २, ३—पत्र ७२) । ४ पङ्क  
 ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७—पत्र ३६३) ।  
 °पवात, °पवाय पुं [°प्रपात] एक द्रव,  
 जहाँ से हरित नदी निकलती है (ठा २, ३—  
 पत्र ७२; टी—पत्र ७५) ।

हरि° देखो हरि° (भग; वि ६८; उक्त ३२,  
 १०३) ।

हरिअ पुं [°हरित] १ वर्ण-विशेष; हरा रंग ।  
 २ वि. हरा रंगवाला (श्रीप; शाया १, १  
 टी—पत्र ४; १, ७—पत्र ११६; से ८,  
 ४६; गा ६६५) । ३ पुं. एक श्रायं मनुष्य-  
 जाति (ठा ६—पत्र ३५८) । ४ पुंन.  
 वनस्पति-विशेष, हरा वृण, सज्जी (पण्य  
 १—पत्र ३०; श्रीप; पात्र; पंच २, ५०;  
 दस १०, ३) ।

हरिअ देखो हिअ = हत (कस; महा) ।

°हरिअ देखो भरिअ = भरित (गा ६३२) ।

हरिअग } न [हरितक] जोरा आदि के  
 हरिअय } पत्तों से बना हुआ भोज्य-विशेष  
 (पत्र २५६; सुव २० टी) ।

हरिआ ली [हारता] द्वर्वा, द्व्व, वृण-विशेष  
 (से ७, ५६; ६, ३१) ।

हरिआ देखो हरि (कुमा) ।

हरिआल देखो हरि-आल ।

हरिआली ली [दि. हरिताली] द्वर्वा, द्व्व  
 (दे ८; ६४; पात्र; श्रंत; कण्य; श्रणु २३) ।

हरिएस देखो हरि-एस ।

हरिचंदण देखो हरि-चंदण ।

हरिचंदण न [दि. हरिचन्दन] कुंकुम, केसर  
 (दे ८, ६५) ।

हरिउय पुं [हरितक] कौकय देव-प्रसिद्ध  
 वृक्ष-विशेष (पण्य १—पत्र ३१) ।

हरिण पुं [हरिण] १ हरिण, मृग (कुमा) ।  
 २ छन्द का एक भेद (मिग) । °श्री श्री  
 [°श्री] मुन्दर नेत्रवाली श्री (कण्य) । °रि  
 पुं [°रि] सिंह (उप ५ २६) । °रिपु पुं  
 [°रिपु] वही (हे ३, १८०) ।

हरिणक पुं [हरिगाङ्ग] चन्द्र, चांद (हे ३,  
 १८०; कण्य; सण) ।

हरिणकुस पुं [हरिणाकुस] चौथे बलदेव के  
 पुत्र एक जैन मुनि (पद्य २०, २०५) ।

हरिणगवेसि देखो हरिणगेसि (पद्य ३,  
 १०४) ।

हरिणी ली [हरिणी] १ माया हरिण, हरिणी  
 (पात्र) । २ छन्द-विशेष (मिग) ।

हरिणगेसि पुं [हरिणगेसि] शक्र के  
 पदाति-सेन्य का श्रविषति देव (ठा ५, १—  
 ३०२; श्रंत ७; इक) ।

हरिदा देखो हलिदा (वि ३७५) ।

हरिमंथ पुं [दे] काला चना, बल-विशेष  
 (श्रा १८; पत्र १५६; संवोध ४३; दे ८, ७०  
 टि) । देखो हरिमंथ ।

हरिमिग पुं [दे] लण्ड, लट्ठी, लाठी, डंडा  
 (दे ८, ६३) ।

हरिचंदपुर न [हरिचन्द्रपुर] गंधर्वनगर  
 (चउप्यन० श्रयनचरित्र) ।

हरिली देखो हरिली (उक्त ३६, ६८) ।

°हरिद्वि वि [°भरवन्] नारवाला, बोकवाला  
 (गा ५४५) ।

हरिस शक [हृप्] चुशी होना । हरिसद  
 (हे ४, २३५; प्राप्र; पट्); 'हरिसिजद  
 कयतावो वृहज्भाणोवगयचित्तो' (संवोध ४६) ।

हरिस सक [हृप्] हृप से रोम खड़ा करना,  
 'लोमादिदं पि ए हरिसे सुत्रागारगदो मुणो'  
 (सूत्र १, २, २, १६) ।

हरिस पुं [हृप्] १ सुख । २ आनन्द, प्रमोद,  
 चुशी (हे २, १०५; प्राप्र; कुमा; भग) । ३  
 आनुषण-विशेष (श्रीप) । °उर पुं [°पुर]  
 एक जैन गच्छ (कुमा ६५८) । °ल वि  
 [°वन्] हृप-युक्त (प्राक ३५) ।

हरिसण पुं [हृपण] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक  
 योग (सुपा १०८) ।

हरिसाद्य वि [हरिण] हृप-प्राप्त (पद्य  
 ३१, ७२) ।

हरिसाल देखो हरिसाल = हृप-यव ।

हरिसिअ वि [हरिण] हृप-प्राप्त, शानन्दिता  
 (श्रीप; नमि; मङ्ग; नण) ।

हरी देखो हिरौ (सुपा १, १३, ६; भग) ।

हरीउई देखो हरीउई (प्राक १२) ।

हरे य [अरे] शन प्रथों का मूलक श्रव्यय—  
 १ श्राधेय, निन्दा । २ संभाषण । ३ रति-कलह  
 (हे २, २०२; कुमा; स ४३०; वि ३३८) ।

हरेउवी देखो हरीउई (पना १०, २५) ।

हरेणुया श्री [हरणुया] प्रियुंयु, मात्रकीनो  
 (उत्तनि ३) ।

हरेस सक [हृप्] गति करना (नाट—  
 वेणो ६७) ।

हल न [हल] हर, विभक्त शैल जोतते हैं  
 (उवा; श्रीप) । °उत्तय पुंन [°युक्तक]  
 हल जोतना; 'श्रमुने जनयन्मि कमां तेषुं  
 हलउत्तयो जिते' (सुपा २३७; २३६; नुर  
 २, ७७) । °कुडाल, °कुडाळ पुं [°कुडाल]  
 हल के ऊपर का भाग (उवा) । °धर पुं  
 [°धर] बलदेव, राम (पण्य १७—पत्र  
 ५२६; दे २, ५५) । °धारण पुं [°धारण]  
 बलभद्र, राम (पद्य ११७, ६) । °वाहग  
 वि [°वाहक] हालिग, हल जोतनेवाला  
 (श्रा २३) । °हर देखो धर (सम ११३;  
 पत्र—गाथा ४८; श्रीप; सुपा २५७) ।

°उह पुं [°युध] बलभद्र, राम (पद्य  
 ३८, २३; ७६, २६) ।

°हल देखो फल = फल (सुपा ३६६; नवि;  
 वि १०३) ।

हलअ (ना) देखो हिअय = हृदय (चाव ११;  
 नाट—मुच्छ २१) ।

हलउत्तय देखो हल-उत्तय ।

हलदा } देखो हलिदा (हे १, ८८; कुमा;  
 हलदा } पट्) ।

हलपप वि [दे] बहु-भाषी, वाचाल (दे  
 ८, ६१) ।

हलबोल पुं [दे] फलकल, शोरगुल, कोलाहल  
 (दे ८, ६४; पात्र, कुमा; सुपा ८७; १३२;  
 हट्टि १४०; सुपा ३६२; तिरि ४३३; सम्मत  
 १२२) ।

हलहर देखो हल-हर = हल-वर ।

हलहल देखो हलहल = (दे) । (गा २१) ।

हलहल } पुंन [दे] १ तुमुल, कोलाहल,  
हलहलअ } शोरगुल (दे ८, ७४; से १२,  
८६) । २ कौतुक, कुतूहल (दे ८, ७४;  
स ७०४) । ३ त्वरा, हड़बड़ी, हलफल,  
शीघ्रता; 'हलहलओ तरा' (पात्र; स ७०४) ।  
४ औत्सुक्य; उत्कंठा (गा २१; ७८०) ।

हलहलिअ वि [दे] कम्पित, कांपा हुआ  
(पिग) ।

हला अ [हला] सली का आमन्त्रण, हे सखि  
(हे २, १६५; स्वप्न ४०; अग्नि २६; कुमा;  
गा ४३०; सुपा ३४६) ।

हलाहल न [हलाहल] एक प्रकार का उग्र  
जहर, विष-विशेष (प्रासू ३८) ।

हलाहला ओ [दे] बंभणिका, बाम्हनी, जन्तु-  
विशेष (दे ८, ६३) ।

हलि पुं [हलिन्] बलराम, बलभद्र (पउम  
७०, ३५; कुप्र १०१) ।

हलिअ वि [हलिअ] हल जोतनेवाला, कृपक  
(हे १; ६७; पात्र; प्राप्र; गा १०७; ३१७;  
३६०) ।

हलिअ देखो फलिअ (गा ६) ।

हलिआ ओ [हलिआ] १ छिपकली । २  
बाम्हनी, जन्तु-विशेष (कप्प) ।

हलिआर देखो हरि-आल = हरि-ताल (हे  
२, १२१; पड) ।

हलिद पुं [हरिद्र, हारिद्र] १ वृक्ष-विशेष  
(हे १, २५४; गा ८६३) । २ वर्ण-विशेष,  
पीला रंग । ३ न. नाम-कर्म का एक भेद,  
जिसके उदय से जीव का शरीर हल्दी के  
समान पीला होता है वह कर्म (कम्म १,  
४०) । ४ पत्त पुं [पत्र] चतुरिन्द्रिय जन्तु  
की एक जाति (परण १—पत्र ४६) ।

५ मच्छ पुं [मत्स्य] मछली की एक जाति  
(परण १—पत्र ४७) ।

हलिदा } ओ [हरिद्रा] औपवि-विशेष, हल्दी  
हलिदी } (हे १, ८८; २५४; गा ५८; ८०;  
२४६) ।

हलीसागर पुं [हलिसागर] मत्स्य की एक  
जाति (परण १—पत्र ४७) ।

हलुअ वि [लघुक] हलका (हे २, १२२;  
स ७४५) ।

हलूर वि [दे] सनुष्ण, सस्पृह (दे ८, ६२) ।  
हले अ [हले] हे सखि, सली का संबोधन  
(हे २, १६५; कुमा) ।

हल अक [दे] हिलना, चलना । हल्लंति  
(सट्टि ६८) । वक्र. हल्लंत (उक्कु २१; सुपा  
३४; २२३; वज्जा ४०; से ८, ४५) ।

हल पुं [हल] एक अनुत्तर-नामी जैन मुनि  
(अनु २; पडि) ।

हलअ न [हलअ] पद्म-विशेष, रक्त कहार  
(विक्र २३) ।

हलपविअ वि [दे] त्वरित, शीघ्र (पड) ।

हलपफल न [दे] १ हलफल, हड़बड़ी,  
औत्सुक्य, त्वरा, शीघ्रता (हे २, १७४; स  
६०२; कुमा) । २ आकुलता; 'अह उवसंते  
करिणो हलपफलए' (सुपा ६३६) । ३  
वि. कम्पनशील, कांपता, चञ्चल; 'पास-  
द्विओवि दीवो सहसा हलपफलो जाओ'  
(वज्जा ६६) ।

हलपफलिअ वि [दे] १ शीघ्र, जल्दी । २  
न. आकुलता; व्याकुलपन (दे ८, ५६) ।  
३ वि. व्याकुल (धर्मवि ५६) ।

हलफल देखो हलपफल (गा ७६) ।

हलपफलिअ देखो हलपफलिअ; 'विमलो  
आह लोहेण, तो हलपफलिओ इमं' (आ १२) ।

हलाधिय वि [दे] हिलाया हुआ (सुर ३,  
१०६) ।

हलिअ वि [दे] हिला हुआ, चलित (दे ८,  
६२; भवि) ।

हल्लिर वि [दे] चलन-शील, हिलनेवाला (स  
५७८; कुप्र ३५१) ।

हल्लीस पुं [दे] रासक, मण्डलाकार होकर  
ब्रियों का नाच (दे ८, ६१; भवि) ।

हल्लुत्ताळ } न [दे] शीघ्रता, जल्दी, त्वरा;  
हल्लुत्तावल } गुजराती में 'उतावल' (भवि;  
सुर १५, ८८) ।

हल्लुपफलिय देखो हल्लुपफलिअ (जय १२) ।

हल्लोहल देखो हल्लुपफल (उप पु ७७; आ  
१६; हे ४; ३६६; उप ७२८ टी; सुख १८,  
३७; महा; भवि) ।

हल्लोहलिअ देखो हल्लुपफलिअ (सिरि ६६४;  
६३४; भवि) ।

हल्लोहलिय पुंओ [दे] सरट, गिरगिट । ओ.  
या (कप्प) ।

हव अक [भू] १ होना । २ सक. प्राप्त  
करना । हवइ, हवेइ, हवति (हे ४, ६०;  
कप्प; उव; महा; ठा ३, १—पत्र १०६);  
'कि इक्खुवाडमज्झद्विओ नलो हवइ महुरत्त'  
(धर्मवि १७), हवेज्ज, हवेज्जा (पि ४७५) ।  
वक्र. हवंत, हवेमाण (पड) ।

हव देखो भव = भव (उप ४६४) ।

हवण न [हवण] होम (विसे १५६२) ।

हवि पुंन [हविस] १ घृत, घी । २  
हवनीय वस्तु (स ६; ७१४; दसनि १,  
१०४) ।

हविअ वि [दे] अलित, चुपड़ा हुआ (दे ५,  
२२; ८, ६२) ।

हव्व वि [हव्व] हवनीय पदार्थ; होम-योग्य  
वस्तु (सुपा १३३) । २ वह पुं [वह] अग्नि,  
आग (उप ५६७ टी; सुपा ४१६; गउड) ।  
३ वाह पुं [वाह] वही (आचा; पाय;  
सम्मत् २२८; वेणी १६२; दस ६, ३५) ।

हव्व वि [अर्वाच्] १ श्वर, पर से अन्य;  
'नो हव्वाए नो पाराए' (आचा; सूत्र २, १,  
१; ८; १०; १६; २४; २८; ३३) । २ न.  
शीघ्र, जल्दी (साया १, १—पत्र ३१; उवा;  
सम ५६; विपा १, १—पत्र ८; ती १०;  
औप; कप्प; कस) । ३ न. गृहवास (सूत्र-  
कुं २-१-६ चूण) ।

हव्व देखो भव्व = भव्य (गा ३६०; ४२०;  
४७६) ।

हस अक [हस] १ हँसना, हास्य करना ।  
२ सक. उपहास करना, मजाक करना ।  
हसइ, हसेइ, हसए, हसंति, हससि, हससे,  
हसित्वा, हसह, हसामि, हसमि, हसामो,  
हसामु, हसाम, हसेम, हसेमु (हे ३, १३६;  
१४०; १४१; १४२; १४३; १४४; १५४;  
१५८; कुमा) । हसेउ, हसंतु, हससु, हसेज्जसु,  
हसेज्जहि, हसेज्जे, हसेज्ज, हसेज्जा (हे ३,  
१५८; १७३; १७५; १७६) । भवि, हसिहिइ  
हसिस्सामो, हसिहिमो, हसिहिस्सा, हसिहित्वा,

हसिस्सं (हे ३, १६६; १६७; १६८; १६९) । कर्म. हसीअइ, हसिज्जइ, हसिज्जंति (हे ३, १६०; १४२) । वक्र. हसंत, हसंत, हसमाण (ओप; हे ३, १५८; १८१; (पड्) । कवक. हसिज्जंत, हसीअंत, हसीअमाण, हसिज्जमाण, हसेज्जमाण (हे ३, १६०; उप ५२७ टी; सुर १४, १८०) । संक. हसिऊण, हसेऊण, हसिउआण, हसिउआणं, हसेउआण, हसेउआणं, हसिऊणं (हे ३, १५७; पि ५८४; ५८५) । हेक. हसिउं, हसेउं (हे ३, १५७) । क. हसिअव्व, हसेअव्व, हसणीअ (पएह २, ५—पत्र १४६; हे ३, १५७; पड्; संक्षि ३४; नाट—मृच्छ ११४) ।

हस अक [हस] हीन होना, कम होना । हसइ (पंच ५, ५३) ।

हस पुं [हास] हास्य (उप १०३१ टी) ।

हसण बीन [हसन] हास्य, हँसी (भग; उत ३६, २६२; पंचा २, ८) । बी. °णा (उप ५ २७५) ।

हसहस अक [हसहसाय] ? उत्तेजित होना । २ सुलगना; 'सिगारस्सत्तु (?) इया मोहमईकु' कुमा हसहसेइ' (सुख १, ८) । वक्र. हसहसित (वसनि ३, ३५) । संक. हसहसेऊण (राज) ।

हसाव देखो हास = हासय् । हसावइ, हसावेइ (हे ३, १४६) ।

हसिअ वि [हसित] ? जिसका उपहास किया गया हो वह (उव ११३) । २ न. हास्य, हँसी (उव २२४) ।

हसिअ वि [हसित] हास-प्राप्त, हीन (पंच ५, ५३) ।

हसिर वि [हसित्] हास्य-कर्ता, हँसने की आदतवाला (प्राप्र; गा १७४; उप ७२८ टी; सुर २, ७८; कुमा) । बी. °री (गउड) ।

हसिरिआ बी [दे] हास, हँसी (दे ८, ६२) ।

हसस अक [हस] कम होना, न्यून होना, क्षीण होना । वक्र. हससमाण (एदि ८२ टी) ।

हसस देखो हस = हस् । हससइ (घात्वा १५७) । कर्म. हससइ (घात्वा १५७; हे ४, २४६) ।

हसस न [हास्य] १ हँसी (आचा १, २, १, २; पव ७२; नाट—मृच्छ ६२) । २ पुं. महाक्रन्दित नामक देवों का दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । °गय न [°गत] कला-विशेष (स ६०३) । °रइ पुं [°रति] इन्द्र-विशेष, महाक्रन्दित-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) ।

हसस वि [हस्व] १ लघु, छोटा (सुअ २, १, १५; पव ५४) । २ वामन, खर्च (पाअ) । ३ अल्प, थोड़ा (भग; पंच ५, १०३; कम्म ५, ८४) । ४ पुं. एक मात्रावाला स्वर (पएणं ३६—पत्र ८४६; विसे ३०६८) ।

हससण वि [हर्षण] हर्ष-कारक 'रोमहस्तणो जुद्धसंमदो' (विक्र ८७) ।

हसिसर देखो हसिसर; 'अ-हसिसरे सदा दंते' (उत ११, ४; सुख ११, ४) ।

हहह अ [हहह, °हा] १ इन अर्थों का हहहा सूचक अव्यय—१ आश्चर्य (प्रयो ७४) । २ खेद, विषाद (सिरि ६१२) ।

हहा पुं [हहा] १ गन्धर्व देवों की एक जाति (हे ३, १२६) । २ अ. खेद-सूचक अव्यय (सिरि २६८; ७६७) ।

हा अ [हा] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ विषाद, खेद (सुर १, ६६; स्वप्न २७; गा २१८; ७५४; ६६०; प्रासू २०) । २ शोक, दिलगीरी । ३ पीड़ा । ४ कुत्सा, निन्दा (हे १, ६७; २, २१७) । °कंद पुं [°क्रन्द] हाहाकार (पिंग) । °रव पुं [°रव] वही अर्थ (सुर २, १११) ।

हा सक [हा] १ त्याग करना । २ गति करना । ३ क्षीण करना, हीन करना, कम करना । हाइ (पड्) । कर्म. हायइ, हायंति (भग; उव), हिज्जइ (भवि), हिज्जउ (प्रयो १०७) । कवक. हायंत (णया १, १० टी—पत्र १७१), हीयमाण (काल) । संक. हाउं (उवकु १०; ११); हिचा, हिचाणं (आचा १, ४, ४, १; पि ५८७), हेच, हेचा (सुअ १, २, ३, १, उत १८, ३५),

हेचाण, हेचाणं (पि ५८७) । क. हेअ (स ५६५; पंचा ६, २७; अणु ८; गउड) । °हा देखो भा—धी (गउड) ।

हाअ देखो हा—सक । हाअइ, हाअए (पड्) । हाअ सक [हादय] अतिसार रोग को उत्पन्न करना । हाएज्ज (पिड ६४६) ।

°हाअ देखो भाअ = नाग (से ८, ८२; पड्) ।

°हाअ देखो घाय = घात (से ७, ५६) ।

°हाअ देवो भाव = भाव (से ३, १५) ।

हाउं देखो भाउ; 'मह वअणं मइरागंविअंति हाअ्रा तुहं भयइ' (गा ८७२) ।

हांसल देखो हंसल (राज) ।

हांकंद देखो हा-कंद ।

हांकलि बी [हांकलि] छन्द का एक भेद (पिंग) ।

हाडहड न [दे] तत्काल, तत्क्षण (वव ?) ।

हाडहडा बी [दे] आरोपणा का एक भेद, प्रायश्चित्त-विशेष (ठा ५, २—पत्र ३२५, निचू २०) ।

हाणि बी [हानि] क्षति, अपचय (भवि) ।

हाम अ [दे] इस तरह, इस प्रकार, एवं; 'हाम भए' (प्राक ८१) ।

हायण पुं [हायन] वर्ष, संवत्सर (ओप; णया १, १ टी—पत्र ५७) ।

हायणी बी [हायनी] मनुष्य की दस दशाओं में छठवीं अवस्था (ठा १०—पत्र ५१६; दंडु १०) ।

हार सक [हारय] १ नाश करना । २ हारना, पराभव पाना । हारेइ, हारसु (उव; महा) । वक्र. हारंत (सुपा १५४) ।

हार पुं [हार] १ माला, अठारह सर की मोती आदि की माला (कम्म; राय १०२; उवा; कुमा; भवि) । २ हरण, अपहरण (वव ?) । ३ द्वीप-विशेष । ४ समुद्र-विशेष (जीव ३, ४—पत्र ३६७) । ५ हरण-कर्ता; 'अदत्त-हार' (आचा १, ३, ३, ५) । °पुड पुं [°पुट] वानु-विशेष, लोहा (आचा २, ६, १, १) । °भइ पुं [°भद्र] हार-द्वीप का अविष्ठाता एक देव (जीव ३, ४—पत्र ३६७) । °महाभइ पुं [°महाभद्र] हार-द्वीप का एक अविष्ठाता देव (जीव ३, ४) । °महावर पुं [°महावर] हार-समुद्र का एक

अधिष्ठायक देवः 'हारसमुद्रे हारवर-हारवर-  
(?हार)महावरा एव्य दो देवा महिद्वीया'  
(जीव ३, ४—पत्र ३६७)। 'वर पुं [°वर]  
१. हार-समुद्र का एक अधिष्ठाता देव। २  
द्वीप-विशेष। ३ समुद्र-विशेष। ४ हारवर-  
समुद्र का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३, ४)।  
°वरभद्र पुं [°वरभद्र] हारवर-द्वीप का  
एक अधिष्ठायक देव (जीव ३, ४)।  
°वरमहाभद्र पुं [°वरमहाभद्र] हारवर-  
द्वीप का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३, ४)।  
°वरमहावर पुं [°वरमहावर] हारवर-  
समुद्र का एक अधिष्ठायक देव (जीव ३, ४)।  
°वरावभास पुं [°वरावभास] १ एक द्वीप।  
२ एक समुद्र (जीव ३, ४)। °वरावभास-  
भद्र पुं [°वरावभासभद्र] हारवराभास-  
द्वीप का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३, ४)।  
°वरावभासमहाभद्र पुं [°वरावभासमहा-  
भद्र] हारवरावभास-द्वीप का एक अधिष्ठायक  
देव (जीव ३, ४)। °वरावभासमहावर पुं  
[°वरावभासमहावर] हारवराभास-समुद्र  
का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३, ४)।  
°वरावभासवर पुं [°वरावभासवर] हार-  
वरावभास-समुद्र का एक अधिष्ठायक देव (जीव  
३, ४—पत्र ३६७)।  
°हार देखो भार (सुपा ३६१; भवि)।  
हारअ वि [हारक] नाश-कर्ता (अभि १११)।  
हारण वि [हारण] ऊपर देखो, 'धम्मत्य-  
कामभोगाण हारणं कारणं दुहसयाणं' (पुप्प  
२६२; धम्म १० टी)।  
हारय देखो हार = हारय्। हारवइ (हे ४,  
३१)। भवि. हारविस्सइ (स ५६६)।  
हारविअ वि [हारित] नाशित (कुमा; सुपा  
५१२)।  
हारा स्त्री [दे] लिखा, जन्तु-विशेष (दे ८,  
६६)।  
°हारा देखो धारा (कप्प, गा ७८५)।  
हारि स्त्री [हारि] १ हार, पराजय (उप पृ  
५२)। २ पंक्ति, श्रेणि (कुप्र ३४४)। ३  
छन्द-विशेष (पिंग)।  
हारि वि [हारिन्] १ हरण-कर्ता (विसे  
३२४५; कुमा)। २ मनोहर, चित्ताकर्षक  
(गठड)।

हारिअ न [हारीत] १ गोत्र-विशेष, जो  
कौत्स गोत्र की एक शाखा है। २ पुंस्त्री. उस  
गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०; खंदि  
४६; कप्प)। °मालागारी स्त्री [°मालाकारी]  
एक जैन मुनि-शाखा (कप्प)।  
हारिअ वि [हारित] १ हारा हुआ, द्यूत  
आदि में पराजित (सुपा ३६६; महा; भावि)।  
२ खोया हुआ; गुमाया हुआ (वव १; सुपा  
१६६)।  
हारियंद वि [हारिचन्द्र] हरिचन्द्र का,  
हरिचन्द्र-कवि का बनाया हुआ (गठड)।  
हारिया स्त्री [हारीता] एक जैन मुनि-शाखा  
(राज)। देखो हारिअ-मालागारी।  
हारियायण न [हारितायन] एक गोत्र  
(कप्प)।  
हारी स्त्री [हारी] देखो हारि = हारि (उप  
पृ ५२; कुप्र ३४४; पिंग)।  
हारीय पुं [हारीत] १ मुनि-विशेष। २ न.  
गोत्र-विशेष (राज)। °बंध पुं [°बन्ध]  
छन्द-विशेष (पिंग)।  
हारोस पुं [हारोप] १ अनायं देश-विशेष।  
२ वि. उस देश का निवासी (पण १—  
पत्र ५८)।  
हाल पुं [दे. हाल] राजा सातवाहन, गाथा-  
सप्तशती का कर्ता (दे ८, ६६; २, ३६, गा  
३; वजा ६४)।  
हाला स्त्री [हाला] मदिरा, दारू (पात्र; कुप्र  
४०७; रंभा)।  
हालाहल पुं [दे] मालाकार, माली (दे ८,  
७५)।  
हालाहल पुंस्त्री [हालाहल] १ जन्तु-विशेष,  
ब्रह्मसर्प, वाम्हनी (दे ६, ६०; पात्र; गा  
६२)। स्त्री. °ला (दे ८, ७५)। २ त्रीन्द्रिय  
जन्तु-विशेष (पण १—पत्र ४५)। ३  
पुं. स्वावर विप-विशेष (दस ६, १, ७;  
गच्छ २, ४)। ४ पुं. रावण का एक सुभट  
(पउम ५६, ३३)।  
हालाहला स्त्री [हालाहला] एक आजीविक-  
मतानुयायिनी कुम्हारिन (भा १५—पत्र  
६५६)।  
हालिअ देखो हलिअ = हालिक (हे १, ६७;  
प्राप्र)।

हालिज्ज न [हालीय] एक जैन मुनि-कुल  
(कप्प)।  
हालिद्द पुं [हारिद्र] १ हल्दी के तुल्य रंग,  
पीला वर्ण (अणु १०६; ठा ५, १—पत्र  
२६१)। २ वि. पीला, जिसका रंग पीला  
हो वह (पण १—पत्र २५; सूय २, १,  
१५; भग; औप)। ३ पुं. एक देव-विमान  
(देवेन्द्र १३२)।  
हालिया स्त्री [हालिका] देखो हलिआ  
(राज)।  
हालुअ वि [दे] स्त्री, मत्त (दे ८, ६६)।  
हाव सक [हापय्] १ हानि करना। २  
त्याग करना। ३ परिभव करना। ४ लोप  
करना; 'थंडिलसामायारि हावेइ' (वव १),  
हावए (उत्त ५, २३; सट्टि २१ टी)। हाव-  
इज्जा (दस ८, ४१)। वक्क. हावित (विसे  
२७४६)।  
हाव पुं [हाव] मुख का विकार-विशेष (पण  
२, ४—पत्र १३२; भवि)।  
हाव वि [दे] जंवाल, द्रुतगामी, वेग से दौड़ने-  
वाला (दे ८, ७५)।  
°हाव देखो भाव = भाव; 'ईसरहावेण' (अच्छु  
२५)।  
हावण वि [हापन] हानि करनेवाला (हे २,  
१७८)।  
हाविर वि [दे] १ जंवाल, द्रुतगामी। २  
दीर्घ, लम्बा। ३ मन्वर। ४ विरत (दे ८,  
७५)।  
हास देखो हस = हस्। वक्क. 'न हासमाणो  
वि गिरं वइज्जा' (दस ७, ५४)।  
हास सक [हासय्] हँसाना। हासेइ (हे  
३, १४६)। कर्म. हासीअइ, हासिज्जइ (हे  
३, १५२)। वक्क. हासेंत (औप)। कवक.  
हासिज्जंत (सुपा ५७)।  
हास पुं [हास] १ हास्य, हँसी (औप; गच्छ.  
२, ४२; उव; गा ११, ३३२)। २ कर्म-  
विशेष, जिसके उदय से हँसी आवे वह कर्म  
(कम्म १, २१; ५७)। ३ अलंकार-शास्त्रोक्त  
रस-विशेष (अणु १३५)। °कर वि [°कर]  
हास्य-कारक (सुपा २४३)। °कारि वि  
[°कारिन्] वही (गठड)।

हास पुं [हास] क्षय, हानि (धर्मसं ११६४)।

हास देखो हरिस = हर्ष (श्रीप)।

हासंकर देखो हास-कर (सुपा ७८)।

हासंकुह्य वि [हास्यकुहक] हास्य-जनक कौतुक-कर्ता (दस १०, २०)।

हासण वि [हासन] १ हास्य करानेवाला (पत्र ७३ टी)। २ हास्य-कर्ता (ग्राचा २, १५, ५)।

हासा स्त्री [हासा] एक देवी (महा)।

हामाविअ } वि [हासित] हैनाया हुआ  
हासिअ } (गा १२३; पङ्; कुमा; हे ३, १५६)।

हासि वि [हासिन्] हास्य-कर्ता (ग्राचा २, १५, ५)।

हासिअ वि [हास्य] हंसने योग्य, 'चतु-  
श्रास्रं पई मा ह पुत्ति जणहासिअं कुणु' (गा ६०५; हे ३, १०५)।

हासिअ देखो भासिअ = भाषित (नाट—  
विक्र ६१)।

हासीअ न [दे. हास्य] हास, हँसी (दे ८, ६२)।

हाहकार देखो हाहा-कार; 'हाहकारपुहरवा'  
(पउम १७, १०)।

हाहा पुं [हाहा] गन्धर्व देवों की एक जाति  
(सुपा ५६; कुमा; धर्मवि ४८)। २ अ-  
विलाप, हाहाकार, शोकव्यनि (पात्र; भग  
७, ६—पत्र ३०५)। ३ क्रय न [कृत]

हाहाकार, शोक-शब्द (गाया १, ६—पत्र  
१५७)। ४ कार पुं [कार] वही (महा;  
भवि; वेणी १३६)। ५ भूअ वि [भूत]

हाहाकार को प्राप्त (भग ७; ६—पत्र  
३०५)। ६ ख पुं [ख] हाहाकार (महा;  
सुपा १३६; भवि)। ७ हूह [हूह] संख्या-

विशेष, 'हाहाहूहंग' को चौरासी लाख से  
गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह (इक)।

हूहअंग न [हूहअङ्ग] संख्या-विशेष,  
'अमम' को चौरासी लाख से गुनने पर जो  
संख्या लब्ध हो वह (इक)।

हि अ [हि] इत अर्थों का सूचक अव्यय—१  
अवधारण, निश्चय (स्वप्न १०)। २ हेतु,  
कारण (कुमा ८, १७; कप्प)। ३ एवम्,

इस तरह (गउड ३२४; सण)। ४ विशेष।  
५ प्रथम। ६ संक्रम। ७ शोक। ८ असूया।  
९ पाद-पूरण (कुमा; गउड; गा २४२;  
२६५; ६०२; ६४८; पिग; हे २, २१७)।

हिअ वि [हृत] १ अपहृत, छीना हुआ  
(गाया १, १६—पत्र २१५; पउम ५, ७३;  
३०, २०; सुर ६, १७५)। २ नीत, जो  
दूसरी जगह ले जाया गया हो वह (पात्र;  
हे १, १२८)। ३ विनष्ट, स्फोटित (पिंड  
४१५)। ४ आच्छिन्न, चींचा हुआ; 'हियहियए'  
(राय)।

हिअ न [हित] १ मङ्गल, कल्याण। २  
उपकार, भलाई (उत्त १, ६; पउम ६५,  
२१; उव; ठा ४, ४ टी—पत्र २८३; प्रासू  
१४)। ३ वि. हित-कारक, उपकारी (उत्त  
१, २८; २६; उव ३२६; ४५०; प्रासू  
१४)। ४ स्वापित, निहित (भत्त ७८)।

कर वि [कर] १ हितकारक (ठा ६)। २  
पुं. दो उपवास (संनोव ५८)। ३ एक  
वणिक का नाम (पउम ५, २८)। ४ कार वि  
[कार] हित-कारक (सु १४६)। ५ यर  
देखो कर (पउम ६५, २१)।

हिअ देखो हिअय = हृदय (हे १, २६६;  
कुमा; ग्राचा; कप्प)। ६ इट्ट वि [इट्ट]  
मनः-प्रिय (पउम ८५, २३)। ७ उडुअण वि  
[उडुअण] चित्ताकर्षण का साधन (गाया  
१, १४—पत्र १८७)। ८ चित्त को शून्य  
बनानेवाला (विपा १, २—पत्र ३६)।

हिअ न [घृत] घी (सुत्त १८, ४३)।

हिअउल (अप) देखो हिअय = हृदय (कुमा)।

हिअंकर पुं [हितंकर] राम-पुत्र कुश के पूर्व  
जन्म का नाम (पउम १०४, २६)।

हिअड } (अप) देखो हिअय = हृदय (हे  
हिअडुल } ४, ३५०; पि ५६६; सण)।

हिअय न [हृदय] १ अन्तःकरण, हिया, मन  
(हे १, २६६; स्वप्न ३३; कुमा; गउड; दं  
४६; प्रासू ४४)। २ वक्षस्, छाती (से ४,  
२१)। ३ पर ब्रह्म (प्राप्र)। ४ गमणीअ वि  
[गमणीअ] हृदयंगम, मनोहर (सम ६०)।  
हारि वि [हारिन्] चित्ताकर्षक (उप  
७२८ टी)।

हिअय देखो हिअ = हित; 'कुदेहि जेहि  
जणो अयाणो हिअयमगम्मि' (उप ७६८  
टी)।

हिअयंगम वि [हृदयंगम] मनोहर, चित्ता-  
कर्षक (दे १, १)।

हिआली स्त्री [हृदयाली] काव्य-समस्या-  
विशेष, गूढार्थक काव्य-विशेष (वज्जा  
१२४)।

हिइ स्त्री [हृति] १ अपहरण। २ न. त्या-  
नान्तर में ले जाना (संज्ञि ५)।

हिएसय वि [हितैपक] हितैच्छु, हित चाहने-  
वाला (उत्त ३४, २८)।

हिएसि वि [हितैपिन्] ऊपर देखो (उत्त  
१३, १५; उप ७२८ टी; सुपा ४०४;  
पुष्क १०)।

हिओ अ [ह्यस्] गत कल (अग्नि ५६;  
प्राप; पि १३४)।

हिंग पुं [दे] जार, उपरित (दे १, ४)।

हिगु पुं [हिङ्गु] १ वृक्ष-विशेष, हांग का  
गाछ (परण १—पत्र ३४)। २ हांग; 'डाए  
लोणे हिगु संकामण फोडणे घुमे' (पिंड २५०;  
स २५८; चार ७)। ३ सिव पुं [शिंव]  
व्यन्तर देव-विशेष (दसनि १, ६६)।

हिगुल पुं [हिङ्गुल] पारिव वातु-विशेष,  
हिगुल; सिगरक (परण १—पत्र २५; ती  
२; जो ३; सुत्त ३६, ७५)।

हिगुलु पुं [हिङ्गुलु] ऊपर देखो (उत्त ३६,  
७५; कप्प)।

हिगोल पुं [दे] मृतक-भोजन, किर्सा के  
मरण के उपलक्ष्य में दी जाती जमीन,  
श्राद्ध। २ यज्ञ आदि के यात्रा के उपलक्ष्य में  
किया जाता जोमनवार (ग्राचा २, १,  
४, १)।

हिचिअ न [दे] एक पैर से चलने की बाल-  
क्रीड़ा (दे ८, ६८)।

हिजीर न [हिजीर] शृंगलक, सिकरी,  
सांजिल (दे ६, ११६; गउड)।

हिंड सक [हिण्ड] १ अमण करना। २  
जाना, चलना। हिंडइ (सुपा ३८४; महा);  
हिंडिजा (श्रीव २५४)। कर्म, हिंडिजइ (प्रासू  
४०)। वक्र, हिंडंत (गा १३८)। क. हिंडि-

यन्त्र (उप पृ ५०; महा)। संक्र. हिडिय (महा)। हेक्र. हिडिउं (महा)।

हिडग वि [हिण्डक] १ भ्रमण करनेवाला (पंचा १८, ८)। २ चलनेवाला (अणु १२६)।

हिडण न [हिण्डन] १ परिभ्रमण, पर्यटन (पउम ६७, १८; स ४६)। २ गमन, गति (उप १०१७)। ३ वि. भ्रमण-शील (दे २, १०६)।

हिडि वी [हिण्डि] परिभ्रमण, पर्यटन; 'वासुदेवाइयो हिडी राय-वंसुभवण वि। ताररणेवि कहं हुंता न हुंतं जइ कम्मयं (कर्म १६)।

हिडि पुं [हिण्डिन्] रावण का एक सुभट (पउम ५६, ३३)।

हिडिअ वि [हिण्डित] १ चला हुआ; चलित, गत (महा ३४)। जहाँ पर जाया गया हो वह; 'हिडियं असेसं गामं' (महा ६१)। ३ न. गति, गमन, विहार (णाय १, ६—पत्र १६५; ओघ २५४)।

हिडुअ पुं [दे. हिण्डुक] आत्मा, जीव, जन्मान्तर माननेवाला आत्मा, हिन्दु (भग २०, २—पत्र ७७६)।

हिडोल न [दे] १ खेत में पशुओं को रोकने की आवाज। २ क्षेत्र की रक्षा का यन्त्र (दे ८, ६६)।

हिडोल देखो हिडोल (स ५२१)।

हिडोलण न [दे] १ रत्नावली, रत्नमाला। २ क्षेत्र की रक्षा की आवाज, खेत में पशु आदि को रोकने का शब्द (दे ८, ३६)।

हिडोलय देखो हिडोल (दे ८, ६६)।

हिंताल पुं [हिन्ताल] वृक्ष-विशेष (उप १०३१ टी; कुमा)।

हिद सक [ग्रह्] स्वीकार करना, ग्रहण करना। हिदइ (प्राकृ ७०; घात्वा १५७)। कर्म. हिदिजइ (घात्वा १५७)। संक्र. हिदिजण (प्राकृ ७०; घात्वा १५७)।

हिंदोल सक [हिन्दोल्य्] झूलना। वक्र. हिंदोलअंत (कप्पु)।

हिंदोल पुं [हिन्दोल] हिडोला, झूलना, दोला (कप्पु)।

हिंदोलग न [हिन्दोलन] झूलना; दोलन (कप्पु)।

हिंविअ न [दे] एक पैर से चलने की बाल-क्रीडा (दे ८, ६८)।

हिंस सक [हिंस] १ वध करना। २ पीड़ा करना। हिंसइ, हिंसई (आचा; पव १२१)। भूका. हिंसिसु (आचा; पव १२१)। भवि. हिंसिस्सइ, हिंसिस्संति, हिंसेही (पि ५१६; आचा; पव १२१)। वक्र. हिंसमाण (आचा)। कृ. हिंस, हिंसियच्च (उप ६२५; परह १, १—पत्र ५; २, १—पत्र १००; उव)।

हिंस वि [हिंस] १ हिंसा करनेवाला, हिंसक (उत्त ७, ५, परह १, १—पत्र ५; वित्ते १७६३; पंचा १, २३; उप ६२५; स ५०)। °पपदाण, °पपयाण न [°प्रदान] हिंसा के साधन-भूत खड्ग आदि का दान (श्रौप; राज)।

हिंसं देखो हिंसा (परह १, १—पत्र ५)। °पपेहि वि [°प्रेक्षिन्] हिंसा को देखनेवाला (ठा ५, १—पत्र ३००)।

हिंसअ } वि [हिंसक] हिंसा करनेवाला  
हिंसग } (भग; ओघ ७५२; उत्त ३६, २५६; उव; कुप्र २६)।

हिंसण न [हिंसण] हिंसा; 'अहिंसणं सव्व-जियाण धम्मो' (सत्त ४२)।

हिंसा वी [हिंसा] १ वध, घात (उवा; महा; प्रासू १४३)। २ वध, वधन आदि से जीव को की जाती पीड़ा, हैरानी (ठा ४, १—पत्र १८८)।

हिंसा वी [हेपा] अश्व का शब्द, 'गयगजि हयहिसं च तप्पुरयो केवि कुव्वंता' (सुपा १६४)।

हिंसिय वि [हिंसित] हिंसा-प्राप्त (राज)।

हिंसिय न [हेपित] अश्व-शब्द (पउम ६, १८०; दस ३, १ टी)।

हिंसी वी [हिंसी] लता-विशेष (गउड)।

हिंहु पुं [दे] हिन्द, हिन्दुस्तान का निवासी (पिग)।

हिंका वी [दे] रजकी, बौबिन (दे ८, ६६)।

हिंका वी [हिंका] रोग-विशेष, हिचकी (सुपा ४८६)।

हिंकास पुं [दे] पङ्क; कादा (दे ८, ६६)।  
हिंकिअ न [दे] हेपा-रव, अश्व-शब्द (दे ८, ६८)।

हिंज देखो हर = ह।

हिंज् देखो हा।

हिंजा } अ [दे. ह्यस्] गत कल (पउ;  
हिंजो } दे ८, ६७, पाअ; प्रयो १३; पि १३४)।

हिंजो अ [दे] आगामी कल (दे ८, ६७)।

हिंठ वि [दे] आकुल (दे ८, ६७)।

हिंठ देखो हेठ (सुर ४, २२५; महा; सुपा ६८)।

हिंठ देखो हट्ट = हट्ट (उव; सम्मत्त ७५)।

हिंठाहिड वि [दे] आकुल (दे ८, ६७)।

हिंठिम देखो हेठिम (सिरि ७०८; सुज १०, ५ टी)।

हिंठिल्ल देखो हेठिल्ल (सम ८७)।

हिंठिव पुं [हिंठिन्] १ एक विद्याधर राजा (पउम १०, २०)। २ एक राक्षस (वेणी १७७)। ३ देश-विशेष (पउम ६८, ६५)।

हिंठिवा वी [हिंठिम्वा] एक राक्षसी, हिंठिम्ब राक्षस की बहिन (हे ४, २६६)।

हिंडोलणय देखो हिंडोलण (दे ८, ७६)।

हिंहु वि [दे] वामन, खर्व (दे ८, ६७)।

हिणिद वि [भिणित] उक्त, कथित; 'खणपा-हुणिया देअरजाआ ए सुहअ कि ति दे ह- (हि)णिदा' (गा ६६३)।

हिणण सक [ग्रह्] ग्रहण करना। हिएणइ (घात्वा १५७)।

हिणण (अप) देखो हीण (पिग)।

°हिणण देखो भिणण (गा ५६३)।

हितअ } (पे) देखो हिअअ = हृदय (प्राप्र-  
हितप } पउ; वाअ १६; पि २५४; हे ४, ३१०; कुमा; प्राकृ १२४)।

हित्य वि [दे] १ लजित (दे ८, ६७; धण ६)। २ अस्त, भय-भीत (दे ८, ६७; हे २, १३६; प्राप्र; गा ३८६; ७६३; सुर १६, ६१; कुमा)। ३ हिंसित, मारा हुआ; 'हित्यो व य हित्यो मे सत्तो, भणियं व न भणियं नोसं' (वव १)।

हित्या वी [दे] लजा, शरम (दे ८, ६७)।

हिदित्र [हृदि] हृदय में 'हिदि निरुद्धवाज्ज्व'  
(विसे २२०)।

हिद्ध वि [दि] रस्त, किसका हुआ, किसक  
कर गिरा हुआ (पङ्)।

हिम न [हिम] ? तुपार, आकाश में गिरता  
जल-कण (पात्रः आचाः से २, ११)। २  
चन्दन, शोन्तण्ड (से २, ११)। ३ शीत,  
ठंडी, जाड़ा (वृह १)। ४ बर्फ, जमा हुआ  
जल (कणः जो ५)। ५ पुं. छठवीं नरक-  
मूर्त्यवी का पहला नरकेन्द्रक—नरक-स्थान  
(देवन्द्र १२)। ६ ऋतु-विशेष, मार्गशीर्ष तथा  
पौष का महाना (उप ७२८ टी)। °कर पुं  
[°कर] चन्द्रमा, चाँद (सुपा ५१)। °गिरि  
पुं [°गिरि] हिमाचल पर्वत (कुमा; भवि;  
सण)। °धाम पुं [°धामन्] वही (धम्म  
६ टी)। °नग पुं [°नग] वही (उप पृ  
३४८)। °यर देखो °कर (पात्र)। °व, °वंत  
पुं [°वन्] ? वर्षधर पर्वत-विशेष; 'हिमवो  
य महाहिमवो' (पउम १०२, १०५; उवा;  
कण्य; इक)। २ हिमाचल पर्वत (वि ३६६)।  
३ राजा अन्वकवृष्णि का एक पुत्र (अंत ३)।  
४ एक प्राचीन जैन मुनि, जो स्कन्दिलाचार्य  
के शिष्य थे; 'हिमवंतस्त्रमानमणे वंदे' (एदि  
५२)। °वाय पुं [°पात] तुपार-पतन  
(आचा)। °शीतल पुं [°शीतल] कृष्ण  
पुरगल-विशेष (मुज २०)। °सेल पुं [°शील]  
हिमालय पर्वत (उप २११ टी)। °गम पुं  
[°गम] ऋतु-विशेष, हेमन्त ऋतु (गा  
३३०)। °र्णा स्त्री [°र्णा] हिम-समूह  
(कुप्र ३६७)। °यल पुं [°चल] हिमालय  
पर्वत (मुपा ६३२)। °लय पुं [°लय]  
वही अर्थ (पउम १०, १३; गउड)।

हिर देखो हिर = किल (हे २, १८६; कुमा)।

हिरडी स्त्री [दि] चील पक्षी की मादा (दे ८,  
६८)।

हिरण्य } न [हिरण्य] ? रजत, चाँदी  
हिरण्य } (उप कण्य)। २ सुवर्ण, सोना  
(मानाः कण्य)। ३ द्रव्य, धन (सूम १, ३,  
३, ८)। °ख पुं [°ख] एक देव्य (से  
४, २२)। °गम्भ पुं [°गम्भ] ? रक्षा।  
२ प्रथम जिन भगवान् (पउम १०६, १२);

'गम्भद्विस्त जस्त उ  
हिरण्यवुद्धी सकंचणा पडिया।  
तेणं हिरण्यगम्भो  
जयम्मि उवगिज्जे उसभो।'  
(पउम ३, ६८)।

हिरि अक [ही] लजित होना। हिरिआमि  
(अमि २५५)।

हिरि° देखो हिरी (गाया १, १६—पत्र २१७;  
पङ्)। °म वि [°मत्] लजालु, शरमिन्दा  
(उत्त ११, १३; ३२, १०३; पिड ५२६)।  
°वेर पुं [°वेर] तुण-विशेष, तुगन्ववाला  
(पात्र; उत्तनि ३)।

हिरि पुं [हिरि] भालुक भालू का शब्द (पउम  
४५)।

हिरिअ वि [हीत] लज्जित (हे २, १०४)।

हिरिआ स्त्री [हीका] लज्जा; शरम (उप  
७०६; कुमा)।

हिरिवि न [दे] पल्लव, क्षुद्र तलाव (दे ८,  
६६)।

हिरिमंथ पुं [दे] चना, अन्न-विशेष (दे ८,  
७०)। देखो हरिमंथ।

हिरिली स्त्री [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६,  
६८)।

हिरिवंग पुं [दे] लघुड, लट्टी (दे ८, ६३)।

हिरी स्त्री [ही] ? लज्जा, शरम (आचा; हे  
२, १०४)। २ महापद्म-हृद की अविष्ठात्री  
देवी (ठा २, ३—पत्र ७२)। ३ उत्तर  
रुचक-पर्वत पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी  
देवी (ठा ८—पत्र ४२७)। ४ सत्पुरुष  
नामक किंपुरुषेन्द्र की एक अन्न महिषी (ठा  
४, १—पत्र २०४)। ५ महाहिमवान् पर्वत  
का एक कूट (इक)। ६ देवप्रतिमा-विशेष  
(गाया १, १ टी—पत्र ४३)।

हिरीअ देखो हिरिअ (हे २, १०४)।

हिरे देखो हरे (पात्र)।

हिला स्त्री [दि] भुगा, हाय;

'वयामो फेच्छंता घणदलपावरण-  
साहल्लिहिलायो।'  
(पुष्वी= चं०-शांतिपुरि)  
साहल्लिहिलायो ति शाखाभुगाः।  
(पुष्वी= चं० प्रथमनव, संकेतकार रत्नप्रमकृत)।

हिला } स्त्री [दे] बालुका, बालू, रेती (दे ८,  
हिला } ६६)।

हिल्लिम पुंस्त्री [दे] कीट-विशेष, त्रीन्द्रिय जन्तु  
की एक जाति (परण १—पत्र ४५)।

हिल्लिरी स्त्री [दे] मछली पकड़ने का जाल-  
विशेष (विपा १, ८—पत्र ८५)।

हिल्लूरी स्त्री [दे] लहरी, तरङ्ग (दे ८, ६७)।

हिल्लोडण न [दे] खेत में पशुओं को रोकने  
की आवाज (दे ८, ६६)।

हिव देखो हव = भू। हिवइ (हे ४, २३८)।

हिसोहिसा स्त्री [दे] स्पर्धा (दे ८, ६६)।

ही म [ही] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ विस्मय, आश्चर्य (सिरि ४७३)। २ दुःख  
(उप ५६७ टी)। ३ विपाद, खेद। ४ शोक,  
दिलगीरी (आ १६; कुप्र ४३६; कुमा; रंभा;  
मन ३७)। ५ वितर्क (सिरि २६८)। ६  
कन्दर्प का अतिरेक। ७ प्रशान्त-भाव का  
अतिशय (अणु १३६)।

ही देखो हिरी (विसे २६०३)। °म वि [°मत्]  
लज्जाशील, लज्जालु (सुअ १, २, २, १८)।

हीअ [ही] मंत्रालय-विशेष, मायावीज  
(सिरि १२१०)।

हीण वि [हीन] ? न्यून, कम, अपूर्ण (उवा;  
गाया १, १४—पत्र १६०)। २ रहित,  
वजित; 'हयं नाणं कियाहीणं' (हे २, १०४)।  
३ अधम, हलका। ४ निन्द्य, निन्दनीय  
(प्रास १२५; उप ७२८ टी)। ५ पुं.  
प्रतिवादि-विशेष (हे १, १०३)। °जाइल  
वि [°जातिक] अधम जाति का, नीच  
जाति का (उप ७२८ टी)। °वाइ पुं  
[°वादिन्] वादि-विशेष (सुपा २८२)।

हीण वि [हीण] भीत (विपा १, २ टी—  
पत्र २८)।

हीमाणहे } (श्री) अ. १ विस्मय, आश्चर्य।  
हीमादिके } २ निर्वेद (हे ४, २८२; कुमा;  
प्राकृ ६८; मृच्छ २०२; २०६)।

हीयमाण देखो हा।

हीयमाणग } न [हीयमाणक] अवधिज्ञान  
हीयमाणय } का एक भेद, क्रमशः कम होता  
जाता अवधिज्ञान (ठा ६—पत्र ३७०;  
एदि)।

हीर देखो हर = हर (हे १, ५१; कुमा; पड्) ।  
हीर पुं [हीर] १ विपम भंग, असमान छेद  
(परण १—पत्र ३७) । २ वारिक कुत्तित  
वृण, कन्द आदि में होती वारिक रेखा (जीव  
३, ४; जी १२) । ३ पुंन. हीरा, मणि-  
विशेष (स २०२; तिरि ११८६; कपू) ।  
४ छन्द-विशेष (पिग) । ५ दाढा का अन्न  
भान (से ४, १४) ।

हीर पुंन [दे] १ सूई की तरह तीक्ष्ण मुँह  
वाला काष्ठ आदि पदार्थ (दे न, ७०; कस) ।  
२ भस्म (दे न, ७०) । ३ प्रान्त, अन्त भाग  
(गजड) ।

हीरंत देखो हर = ह ।

हीरणा स्त्री [दे] लाज, शरम (दे न, ६७;  
पड्) ।

हीरमाण देखो हर = ह ।

हील सक [हेलय्] १ अचना करना,  
तिरस्कार करना । २ निन्दा करना । ३  
कदर्थन करना, पीड़ना । हीलइ (उव; सुख  
२, १६), हीलंति (दस ६, १, २; प्रासू  
२६) । वक्र. हीलंत (सद्वि ८६) । कवक.  
हीलिजंत, हीलिजमाण (उप पृ १३३;  
याया १, ८—पत्र १४४; प्रासू १६५) ।  
क. हीलिणज (याया १, ३), हीलियच्च  
(परह २, १—पत्र १००; २, ५—पत्र  
१५०) ।

हीलण स्त्रीन [हेलन] १ अचना, तिरस्कार ।  
२ निन्दा (सुपा १०४) । स्त्री. णी (परह २,  
१—पत्र १००; श्रौप; उव; दस ६, १, ७;  
सद्वि १००) ।

हीला स्त्री [हेला] ऊपर देखो (उव; उप पृ  
२१६; उप १४२ टी) ।

हीलित वि [हीलित] १ निन्दित । २  
अपमानित, तिरस्कृत (सुख २, १७; श्रौष  
५२६; कस; दस ६, १, ३) । ३ पीड़ित,  
कदर्थित (आचा २, १६, ३) ।

हीसमण न [दे. हेपित] हेषारव, अथ—  
घोड़े का शब्द (दे न, ६८; हे ४, २५८) ।

हीही (शौ) अ. विदूषक का हर्ष-सूचक  
हीहीभो अ. अव्यय (हे ४, २८५; कुमा; प्राकृ  
६७; मोह ४१) ।

हु अ [खल्लु] इन अर्थों का द्योतक अव्यय—  
१ निश्चय (हे २, १६८; से १, १५; कुमा;  
प्राकृ ७८; प्रासू ५४) । २ ऊह, वितर्क  
(हे २, १६८; कुमा; प्राकृ ७८) । ३ संशय,  
संदेह (हे २, १६८; कुमा) । ४ संभावना  
(हे २, १६८; कुमा; प्राकृ ७८) । ५ विलम्ब,  
आश्चर्य (हे २, १६८; कुमा) । ६ किन्तु,  
परन्तु (प्रासू १०१) । ७ अपि, भी; 'हु  
अविसद्व्यम्मि व त्ति' (वमंसं १४० टी) ।  
८ वाक्य की शोभा (पंचा ७, ३५) । ९  
पादपूर्ति, पाद-पूरण (पत्रम न, १४६;  
कुमा) ।

हु } देखो हव = भू । हुअइ, हुएइ, हुंति,  
हुअ } हुइरे, हुअइरे, हुज्ज, हुएज, हुएइरे,  
हुएज्जइरे (पि ४७६; हे ४, ६१; पि ४५८;  
४६६) । भवि. हुक्खामि, होक्खामि, हुक्खं  
(उत्त २, १२; सुख २, १२) । वक्र. हुंत  
(हे ४, ६१; सं ३४) ।

हुअ देखो हुण—हु । हुअइ (प्राकृ ६६) ।  
वक्र. हुअंत (घात्वा १५७) ।

हुअ वि [हुत] १ होमा हुआ, हवन किया  
हुआ (सुपा २६३; स ५५; प्राकृ ६६) । २  
न. होम, हवन (सूअ १, ७, १२; प्राकृ  
६६) । ३ वह पुं [वह] अग्नि, आग (गा  
२११; पाअ; याया १, १—पत्र ६३;  
गजड) । ४ स पुं [श] अग्नि (गजड;  
अश्र १५०; भवि; हि १३) । ५ सन पुं  
[शान] वही अर्थ (भग; से ५, ५७; पाअ) ।

हुअ देखो हूअ—भूत (प्राप्र; कुमा; भवि;  
सण) ।

हुअंग देखो भुअंग; चंदनलद्विव्व हुअंगदूमिआ  
कि णु दूमैसि' (गा ६२६) ।

हुअग देखो भुअग (गा ८०६; पि १८८) ।

हुं अ [हुम्] इन अर्थों का सूचक अव्यय—  
१ दान । २ पृच्छा, प्रश्न (हे २, १६७;  
प्राप्र; कुमा) । ३ निवारण (हे २, १६७;  
कुमा) । ४ निवारण (प्राप्र; रंभा) । ५  
स्वीकार (आ १२; कुप्र ३४५) । ६ हुंकार,  
'हुं' शब्द; 'हुं करंति धूमन्' (सुपा ४६२) ।  
७ अनादर (तिरि १५३) ।

हुंकय पुं [दे] अञ्जलि, प्रणाम (दे न, ७१) ।

हुंकार पुं [हुंकार] १ अनुमति-प्रकाशक शब्द,  
हाँ (वित्से ५६५; से १०, २४; गा ३५६;  
आत्मानु ६) । २ 'हुं' आवाज, 'हुं' ऐसा  
शब्द (हे ४, ४२२; कपू; सुर १, २४६) ।  
हुंकारिय न [हुंकारित] 'हुं' ऐसी की  
हुई आवाज (स ३७७) ।

हुंकरव पुं [दे] अञ्जलि, प्रणाम (दे न, ७१) ।  
हुंड न [हुण्ड] १ शरीर की आकृति-विशेष,  
शरीर का वेदव अवयव (ठा ६—पत्र ३५७;  
सम ४४; १४६) । २ कर्म-विशेष, जिसके  
उदय से शरीर का अवयव असंपूर्ण वेदव—  
प्रमाण-शून्य अव्यवस्थित हो वह कर्म (कम्म  
१, ४०) । ३ वि. वेदव अंगवाला (विपा  
१, १—पत्र ५) । ४ वसपिपणी स्त्री  
[वसपिणी] वर्तमानहीन समय (विचार  
५०३) ।

हुंडी स्त्री [दे] घटा (पाअ) ।

हुंउड पुं [दे] वानप्रस्थ तापस की एक  
जाति (श्रौप; भग ११, ६—पत्र ५१५;  
५१६) ।

हुंहुय अक [हुंहुं + ऊ] 'हुं' 'हुं' आवाज  
करना । वक्र. हुंहुयंत (चेइय ४६०) ।

हुंहु देखो पहुच = प्र + भू ।

हुंहु देखो होहु (आचा; पि ८४; ३३८) ।

हुंड पुं [दे] १ भेष, मेड़ा (दे न, ७०) । २  
धान, कुत्ता (मृच्छ २५३) ।

हुंडुअ पुं [दे] प्रवाह (दे न, ७०) ।

हुंडुक्क पुं स्त्री [दे. हुंडुक्क] वाद्य-विशेष (श्रौप;  
कपू; सण; विक्र ८७) । स्त्री. क्का (राय;  
सुपा ५०; १७५; २४२) ।

हुंडुम पुं [दे] पताका, ध्वजा (दे न, ७०;  
पाअ) ।

हुंडु पुं स्त्री [दे] होड़, बाजो, पण, शल, दांव ।  
स्त्री. हुंडा (दे न, ७०; सुपा २७६; पत्र  
३८); 'हुंडाहुंडं सुयंतेहि' (सम्मत्त १४३) ।  
देखो होहु ।

हुण सक [हु] होम करना । हुणइ (हे ४,  
२४१; भग ११, ६—पत्र ५१६; कुमा) ।  
कर्म. हुवइ, हुणज्जइ, हुणज्जए (हे ४,  
२४२; कुमा) । कवक. हुणिज्जमाण (सुपा  
६७) । संक. हुणिऊण, हुणेऊण, हुणित्ता  
(पड्; भग ११, ६—पत्र ५१६) ।



हुणण न [ह्वन] होम (सुपा ६३) ।

हुणिअ देखो हुअ = हुत (सुपा २१७; मोह १०७) ।

हुत्त वि [दे] अग्निमुख, संमुख (दे न, ७०; हे २, १५८; गडड; भवि) ।

हुत्त देखो हुअ = हुत (हे २, ६६) ।

हुत्त देखो हुअ = भूत (गा २४५; ८६६) ।

हुमआ देखो भुमआ (गा ५०५; पि १८८) ।

हुर देखो फुर = स्फुर । वक्र. 'कंतीए हुरतीए' आदि (कुप्र ४२०) ।

हुरड पुंलो [दे] वृण आदि से कुछ कुछ पकाया हुआ चना आदि बान्ध, होला—होरहा (सुपा ३८६; ४७३) ।

हुरत्या अ [दे] बाहर (आचा १, ८, २, १; २, १, २, २; कस) ।

हुरडी लो [दे] विपादिका, रोग-विशेष (दे न, ७१) ।

हुल सक [क्षिप्] फेंकना । हुलइ (हे ४, १४३; पड) ।

हुल सक [मृज्] मार्जन-करना, साफ करना । हुलइ (हे ४, १०५; पड) ।

हुलण वि [मार्जन] सफा करनेवाला (कुमा ६, ६८) ।

हुलण न [क्षेपण] फेंकना (कुमा) ।

हुलिअ वि [दे] १ शीघ्र, वेग-युक्त; 'मइ पवणहुलिए' (दे न, ५६) । २ न. शीघ्र, जल्दी, तुरंत (परह १, १—पत्र १४; स ३५०; उप ७२८ टी) ।

हुलुमुलि ली [दे] कपट, धम्म (नाट—मृच्छ २८२) ।

हुलुव्ही ली [दे] प्रसव-भरा, निकट-भविष्य में प्रसव करनेवाली स्त्री (दे न, ७१) ।

हुल्ल देखो फुल्ल = फूल (भवि) ।

हुय देखो हुण = हु । हुवइ (प्राक ६६) ।

हुव देखो ह्व = भू । हुवति (हे ४, ६०; प्राप्र) । भुका. हुवीअ (कुमा ५, ८८) । भवि. हुविस्तंति (पि ५२१) । वक्र. हुवंत, हुवमाण, हुवेमाण (पड) । संक. हुविअ (नाट—चैत ५७) ।

हुव (अप) देखो हुअ = भूत (भवि) ।

हुव (अप) देखो हुअ = हुत (भवि) ।

हुव्य देखो हुण = हु ।

हुव्यंत देखो हुव्यंत = धुव = धान् (से ६, ३४) ।

हुस्स देखो हस्स = हस्व (आचा; औप; सम्मत १६०) ।

हुहुअ पुंन [हुहुक] देखो हूहुअ (अणु ६६; १७६) ।

हुहुअंग पुंन [हुहुकाङ्ग] देखो हूहुअंग (अणु ६६; १७६) ।

हुहुर अ [हुहुर] अनुकरण-शब्द-विशेष, 'हुहुर' ऐसा शब्द (हे ४, ४२३; कुमा) ।

हुअ देखो भूअ = भूत (हे ४, ६४; कुमा; आ १४; १६; महा; सार्ध १०५) ।

हुअ वि [हुत] आहूत, आकारित (हे २, ६६) ।

हुअ देखो हुअ = हुत; 'मन्ने पंचसरो पुरा मगवया ईसेण हूयो सर्वे कोहंवेण सप्रासुगोवि सवणुहंडोवि णित्तानले' (रंभा २५) ।

हूण पुं [हूण] १ एक अनार्य देश । २ वि. उसका निवासी मनुष्य (परह १, १—पत्र १४; कुमा) ।

हूण देखो हीण = हीन (हे १, १०३; पड) ।

हूम पुं [दि] लोहार (दे न, ७१) ।

हूसण देखो भूसण (गा ६५५; पि १८८) ।

हूहू पुं [हूहू] गन्धर्व देवों की जाति (धर्मवि ४८; सुपा ५६) ।

हूहूअ पुंन [हूहूक] संख्या-विशेष, 'हूहूअंग' को चौरासी लाख से गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह (ठा २, ४—पत्र ८६; अणु २४७) ।

हूहूअंग पुंन [हूहूकाङ्ग] संख्या-विशेष, 'अवव' को चौरासी लाख से गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह (ठा २, ४—पत्र ८६; अणु २४७) ।

हे अ [हे] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ संबोधन । २ आह्वान । ३ अमूया, ईप्यां (हे २, २१७ डि; पि ७१; ४०३; भवि) ।

हेअ देखो हा = हा ।

हेअ देखो भेअ = भेद (गा ८२७) ।

हेअंगवीण न [हेअङ्गवीण] १ नवनीत, मक्खन । २ ताजा घी (नाट—साहित्य २३६) ।

हेआल पुं [दे] हस्त-विशेष से निषेध; साँप

के फण की तरह किए हुए हाथ से निवारण (दे न, ७२) ।

हेउ पुं [हेतु] १ कारण, निमित्त; 'हिऊइं' (राय २६; उवा; परह २, २—पत्र ११४; कप; गडड; जी ५१; महा; पि ३५८) । २ अनुमान-वाक्य, पंचात्रयवाक्य (उत्त ६, ८; सुख ६, ८) । ३ अनुमान का साधन (धर्मसं ७७; ठा ४, ४ टी—पत्र २८३) । ४ प्रमाण (अणु) ।

'वाय पुं [वाट] १ वारहवाँ जैन अंग-ग्रन्थ दृष्टिवाद (ठा १०—पत्र ४६१) । २ तर्कवाद, युक्तिवाद (सम्म १४०; १४२) ।

हेउअ वि [हेतुक] १ हेतुवाद को माननेवाला, तर्कवादी; 'जो हेउवावपक्कम्मिहेउअओ आगमे य आगमिओ' (सम्म १४२; उवर १५१) । २ हेतु का, हेतु से संबन्ध रखनेवाला । लो. उई (विते ५२२) ।

हेच } देखो हा = हा ।

हेचाणं }

हेज्ज देखो हर = ह ।

हेड्ढ लो [अधस] नीचे, गुजराती में 'हेठ'; 'नगोहेहेड्ढम्म' (सुर १, २०५; पि १०७; हे २, १४१; कुमा; गडड); 'हेड्ढो' (महा) । लो. डा (औप; महा; पि १०७; ११४) ।

'सुह वि [सुख] अवाङ्मुख; जिसने मुँह नीचा किया हो वह (विपा १, ६—पत्र ६८; दे १, ६३; भवि) । 'अणि वि [अवनी] महाराष्ट्र देश का निवासी, मरहटा—मरहठा (पिड ६१६) ।

हेड्ढिम } वि [अधस्तन] नीचे का (सम हेड्ढिळ } १६; ४१; भग; हे २, १६३; सम् ८७; पड; औप) ।

हेडा ली [दे] १ घटा. समूह (सुपा ३८६; ५३०) । २ घूत आदि खेलने का स्थान. अखाड़ा (धम्म १२ टी) ।

हेडिस } (अशो) देखो एरिस (पि १२१) ।

हेडिस }

हेपिअ वि [दे] उन्नत, ऊँचा (पड) ।

हेम न [हेम] १ सुवर्ण; सोना (पाअ; जं ४; औप; संवि १७) । २ घत्तूरा । ३ मांस का परिमाण । ४ पुं. काला घोड़ा । ५ वि. पंडित (संवि ७) । ६ पुं. एक विद्याधर राजा (पडम १०, २१) । चंद्र पुं [चन्द्र] १-२ विक्रम की बारहवीं शताब्दी के दो

सुप्रसिद्ध जैन आचार्य तथा ग्रन्थकार (दे ८, ७७; सुपा ६५८) । ३ विक्रम की पनरहवीं शताब्दी का एक जैन मुनि (सिरि १३४१) ।  
 °जाल न [°जाल] सुवर्ण की माला (श्रौप) ।  
 °तिलय पुं [°तिलक] विक्रम की चौदहवीं शताब्दी का एक जैनाचार्य (सिरि १३४०) ।  
 °पुर न [°पुर] एक विद्यावर-नगर (इक) ।  
 °मय वि [°मय] सोने का बना हुआ (सुपा ८८) ।  
 °महिहर पुं [°महिहर] मेरु पर्वत (गउड) ।  
 °मालिणी स्त्री [°मालिनी] एक विष्णुमारी देवी (इक) ।  
 °व पुं [°वत्] फाल्गुन मास (सुज १०, १६) ।  
 °विमल पुं [°विमल] एक जैन आचार्य (कुम्मा ३५) ।  
 °भ पुं [°भ] चौथी नरक-पृथिवी का एक नरक-स्थान (निर १, १) ।

हेमंत पुं [हेमन्त] १ ऋतु-विशेष, मगसिर या अग्रहन तथा पोस या पूस महिना (पात्र; आचा; कप्प; कुमा) । २ शीतकाल (दस ३, १२) ।

हेमंत वि [हेमन्त] हेमन्त ऋतु में उत्पन्न (सुज १२—पत्र २१६) ।

हेमन्तिअ वि [हेमन्तिक] ऊपर देखो (कप्प; श्रौप; गा ६६; राय ३८) ।

हेमग वि [हेमक] हिम का, हिम-संबन्धी (ठा ४, ४—पत्र २८७) ।

हेमवड } पुंन [हेमवत] १ वर्ष-विशेष, क्षेत्र-  
 हेमवय } विशेष (इक; सम १२; जं ४—पत्र २६६; ३००; ठा २, ३ टी—पत्र ६७; पउम १०२, १०६) । २ हिमवत पर्वत का एक शिखर । ३ कूट-विशेष (इक) । ४ वि. हिमवत पर्वत का (राय ७४; श्रौप) । ५ पुं. हेमवत क्षेत्र का अविष्ठाता देव (जं ४—पत्र ३००) ।

हेम्म देखो हेम (संक्षि १७) ।

हेर सक-[दे] १ देखना, निरीक्षण करना । २ खोजना, अन्वेषण करना । वक्र. हेरंत (पिन) । संक्र. हेरिऊण (धर्मवि ५४) ।

हेरंव पुं [दे] १ महिष, भैंसा । २ डिण्डिम, वाद्य-विशेष (दे ८, ७६) ।

हेरणवय पुंन [हेरणवत] १ वर्ष-विशेष, एक युगलिकक्षेत्र (इक; पउम १०२, १०६) । २ रविम पर्वत का एक शिखर । ३ शिखरी पर्वत का एक शिखर (इक २१८) ।

हेरणिअ पुं [हेरणिक] सुवर्णकार (उप पृ २१०) ।

हेरन्नवय देखो हेरणवय (ठा २, ३—पत्र ६७; ७६) ।

हेरिअ पुं [हेरिक] गुप्त चर, जासूस (सुपा ४६४; ५८६) ।

हेरिं व पुं [दे. हेरिन्] विनायक, गणेश (दे ८, ७२; पड्) ।

हेरुयाल सक [दे] क्रुद्ध करना, गुस्ता उपजाना । हेरुयालंति (णाय १, ८—पत्र १४४) ।

हेला स्त्री [हेला] १ स्त्री की शृङ्गार-संबन्धी चेशा-विशेष (पात्र) । २ अनादर (पात्र; से १, ५५) । ३ अनायास, अल्प प्रयास, सहलाई, सरलता (से १, ५५; कप्प; प्रवि ११; पि ३७५) ।

हेला स्त्री [दे. हेला] वेग, शीघ्रता (दे ८, ७१; कप्प; प्रवि ११; पि ३७५) ।

हेलिय पुं [हेलिक] एक तरह की मछली (जीव १ टी—पत्र ३६) ।

हेलुअ न [दे] क्षुत्, छोक (दे ८, ७२) ।

हेलुक्का स्त्री [दे] हिका, हिचकी (दे ८, ७२) ।

हेल्लि (अप) अ [हले] सखी का आमन्त्रण, हे सखि (हे ४, ४२२; ३७६; पि १०७) ।

हेवं (अशो) देखो हेवं (पि ३३६) ।

हेवाग पुं [हेवाक] स्वभाव, आवत (राज) ।

हेसमण वि [दे] उन्नत, ऊँचा (पड्) ।

हेसा स्त्री [हेपा] अरव-शब्द (सुपा २८८; आ २७) ।

हेसिअ न [हेपित] ऊपर देखो (दे ८, ६८; पउम ५४, ३०; श्रौप; महा; भवि) ।

हेसिअ न [दे. हेपित] रसित, चीत्कार (पड्) ।

हेहंभूअ वि [दे] गुण-दोष के ज्ञान से रहित और निदम्भ, अज्ञ किन्तु निखालस (वव १) ।

हेह्य पुं [हेह्य] १ एक राजा (राज) । २ °डिं व पुं [°डिं व] एक विद्याधर राजा (पउम १०, २०) ।

हो देखो ह्य = भू । होइ, होअइ, होअए, होअइ, हींति, होइरे, होअइरे (हे ४, ६०; पड्; कप्प; उव; महा; पि ४५८; ४७६) । होज, होजा, होएज, होएजा, होउ (हे ३,

१५६; १७७; भग; प्राप्र; पि ४६६) । भूका, होत्या, होहोअ (कप्प; प्राप्र) । भवि. होहिद, होहिति, होहामि, होहिमि, होस्सं, होस्सामि, होनखड, होनखं (हे ३, १६६; १६७; १६६; प्राप्र; पि ५२१), होसड (अप) (हे ४, ३८८) । कर्म. होइजइ, होइजए, होइअइ (पड्; पि ४७६) । वक्र. होत, होमाण (हे ३, १८०; ४, ३५५; ३७२; कुमा; पि ४७६) । संक्र. होऊण, होऊणं, होअऊण, होइऊण, हविय, होत्ता (गउड; पि ५८५; ५८६; कुमा) । हेक. होडं, होत्तए (महा; पि ४७५; कप्प) । क. होयव्य (कप्प; महा; उव; प्रासू १६; ६१) ।

हो अ [हो] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ विस्मय, आश्चर्य (पात्र; नाट—मृच्छ ११२) । २ संवोधन, आमन्त्रण (संक्षि ४७; उप ५६७ टी) ।

होउ वि [होउ] होम-कर्ता (गा ७२७) ।

होंड देखो हुंड (विचार ५०७) ।

होड्ड पुं [ओष्ठ] होंठ, ओठ (आचा) ।

होड्डु देखो हुड्डु; 'तो हं छोडेमि होड्डुप्रो' (सुपा २७७, २७८) ।

होड पुं [होड] मोप, चोरी की वस्तु (णाय १, २—पत्र ८६; पिड ३८०) ।

होण देखो हूण = हूण (पव २७४; विचार ४३) ।

होत्तिय पुं [होत्रिक] १ वानप्रस्थ तापसों का एक वर्ग, अग्निहोत्रिक वानप्रस्थ (श्रौप; भग ११, ६—पत्र ५१५) । २ न. तृण-विशेष (पण १—पत्र ३३) ।

होम पुं [होम] हवन, अग्नि में मन्त्र-पूर्वक घृत आदि का प्रक्षेप (अभि १५६) ।

होम सक [होमय] होम करना । हेक. होमिउं (ती ८) ।

होमिअ वि [होमित] हवन किया हुआ, 'अणत्थपडियकुक्कवहविहोमिअो' (स ७१४) ।

होरंभा स्त्री [होरम्भा] वाद्य-विशेष, महा-ढक्का, वड़ा ढोल (राय ४६) ।

होरण न [दे] वज्र, कपड़ा (दे ८, ७२; गा ७७१) ।

होरा श्री [होरा] ? खड़ी या खली से की हुई  
रेखा (गा ४३५) । २ ज्योतिष-शास्त्र में उक्त  
लग्न (मोह १०१) । ३ होराज्ञापक शास्त्र  
(स ६०२) ।

होल पुंल्री [दे] ? वाद्य-विशेष, होल वाएह  
मे इत्व' (धर्मवि ४४); 'आढतं मज्जपाणं  
वायावेइ होल' (सुख ३, १) । २ पक्षि-विशेष;

'होलाहगिदकुक्कुडहंसवगाईसु तउणजाईसु ।  
जं खुहवसेण खट्ठा किमिमाई तेवि खामेमि'  
(खा १३) ।

३ एक तरह की गाली, अपमान-सूचक शब्द—  
मूखं, वेवकूफ (ग्राचा २, ४, १, ६; ११;  
दस ७, १४; १६) । 'वाय पुं [°वाद्] दुर्वचन  
बोलना, गाली-प्रदान (सूत्र १, ६; २७) ।

होलिया श्री [होलिका] हौली, फागुन मास  
का पर्व-विशेष (सिद्धि ७८ टी) ।

होस° देखो हो = भू ।

हृद देखो दह (पिड ८४, पि ३६६ ए) ।

हृस देखो रहृस = हृस (पि ३५४) ।

हास देखो हास = हास (खंडि २०६ टी) ।

॥ इय पाइअसदमहणयम्मि ह्याराइसदसंकलणो अदुतासइमो तरंगो  
समत्तो । समत्तो अ तत्तमत्तीए एस गंधो ॥

### पसर्था [प्रशस्तिः]

आसाइ पच्छिमाए भारह-वासे इहस्थि अइ-रम्मो । गुज्जर-णामा देसो पुव्वं लाढो त्ति विक्रवाओ ॥१॥  
तस्सुत्तर-दिस्सि-भाए पुरं पुराणं पुराणमइ-पवरं । राहणपुरं त्ति अच्छइ सच्छाण जिणिद-भवणाणं ॥२॥  
चंगाणं तुङ्गाणं धय-वड-सेअंचलेहिं चलिरेहिं । पडिसेहंतं पिय जं णिअ-वासि-जणे अहम्माओ ॥३॥  
णिअ-पाय-णासेणं वासेण य वास-याल-पेरंतं । जं पुण कयं पवित्तं जय-गुरु-पमुहेहिं सरीहिं ॥४॥ [कुलयं]  
तव्वत्थव्वो आसी सिट्ठी सिरिमाळ-वंस-वर-रयणं । णामेण तिअमचंदो दक्खिण-दयाइ-गुण-कळिओ ॥५॥  
आवय-संपत्तीणं संपत्तीए वि जेण णिअचित्ते । दिण्णो णेव कयाई विसाय-हरिसाण अवयासो ॥६॥ [जुगं]  
अणवज्ज-कज्ज-सज्जा धम्म-मणा धम्मपत्ती से धणिअं । सीलाइ-गुण-पपहाणा पहाणदेवि त्ति अ अहेसि ॥७॥  
तेसिं दो तणुजम्मा आवहं लद्ध-धम्म-सक्कारा । जिट्ठो हरगोविंदो ऋणिट्ठो बुद्धिचंदो ओ ॥८॥  
सत्थ-विसारय-जइणायरिणहिं विजयधम्म-सूरीहिं । कासीइ महेसीहिं विज्जागारम्मि संठविए ॥९॥  
गंतूण सोअरेहिं तेहिं वेहिंपि तत्थ सत्थाणं । सक्कय-पययमयाणं अन्भासो काउमारदो ॥१०॥  
खण-द्रिट्ठ-गट्ठ-भावं संसारं सार-वज्जिअं णाडं । एअंतिअ-अचंतिअ-सोक्खं मोक्खं च चाय-फलं ॥११॥  
पडियज्जिअ पव्वज्जं अणुओ पयणुअ-राग-विदेसो । विहरइ तं पालित्तो विसालविज्जो त्ति पत्तभिहो ॥१२॥ [जुगं]  
जेट्ठो उण सत्थाणं णाय-व्वायरणमाइ-विसयाणं । वढणउक्कावाण-संतोहणाइ-कज्जेसु दिण्ण-मणो ॥१३॥  
लंकाइ सिहलेसुं पाली-भासाइ सुगय-समयाणं । अन्भास-परिक्खासुं पारं पत्तोप-कालेणं ॥१४॥  
कळिक्कायाए णाए वायरणे चैव लद्ध-तित्थ-पओ । खायाइ परिक्खाए उत्तिण्णो उच्च-कक्खाए ॥१५॥  
तत्थेव विस्सविज्जालयम्मि सव्वुत्तमाइ सेणीए । पायय-सक्कय-सत्थउक्कावण-कज्जम्मि विणिउत्तो ॥१६॥  
तेण य पायय-भासाहिहाण गंथस्स विक्खमाणेणं । चिर-कालाउ अभावं आयर जोग्गस्स विवुहाणं ॥१७॥  
वाणारसीइ वरिसे सिअहय-हय-अंकर-रयणिरयण-मिए । विहिओ उवक्कमो विक्कमाओ एअस्स गंथस्स ॥१८॥  
कळिक्कायाए जाया पावय-वसु-अंकर-इंदु-परिगणिए । वरिसे भइय-मासे सिअ-सत्तमीए समत्ती ओ ॥१९॥  
तस्स सुभदादेवी-णामाइ सधम्मिणीइ एत्थ वहुं । आयरिअं साहिज्जं विज्जउक्कयणाणुरत्ताए ॥२०॥  
आरंभं काऊणं आरिस-भासाउ आ अवव्भंसा । जो सद्दो जहिं अत्थे जत्थ गंधे उ उवलदो ॥२१॥  
वण्णाणमणुक्कमेणं सो सद्दो तम्मि अत्थए लिहिओ । तग्गन्थ-ठाण-दंसण-पुव्वं णिउणं णिरुवेत्ता ॥२२॥  
पाईण-पाइआणं भासाण वहुत्त-भेअ-भिण्णाणं । सद्धणव-पारं जे गया तयट्ठो ण एस समो ॥२३॥  
जे उण अण-पत्तट्ठा सयं तयव्भासिणो य अ-सहाया । ताणं हत्थालं वण-दाणाएवस्स णिम्माणं ॥२४॥  
जइ थेवोवि हवेज्जा तेसिं गन्धेणणेण उवयारो । ता एत्तिअमेत्तेणं मण्णे आयास-साहलं ॥२५॥  
अण्णाणेण मईए भमेण वा एत्थ किंचि जमसुद्धं । तं सोहितु पंसायं काऊण सयासया स-यणा ॥२६॥

॥ समाप्ता ॥

इस कोष के विषय में कतिपय सुप्रसिद्ध विद्वान् और पत्रकारों के

## कुछ अभिप्राय

# A few Opinions of some Savants & Journalists regarding the PĀKRIT DICTIONARY.

Prof. Earnest Leumann (in the journal of Royal Asiatic Society, London, July, 1924.

“During recent years several scholars in India have tried to bring out a Prākṛit Dictionary. However, no one seems to have succeeded in publishing more than a small specimen. Only recently, towards the end of 1923, there has appeared a new start, which is no longer a simple specimen, but an elaborate first part, comprising no less than 260 large size pages. In this volume all words beginning with vowels are included. And, if the following parts, which are to embrace the words beginning with consonants, carries on the Dictionary in the same lines, it will be finished in about seven such parts, and will contain nearly 2000 pages. On its completion Indian philology will certainly be congratulated from all sides, and Prākṛit literature, which is so immensely rich may then be studied as it ought to be, in intimate connexion with Sanskrit lore, which has long possessed Lexicographic aids of all kinds.

The title of the forthcoming dictionary is Pāia-sadda-mahaṇṇavo, “the great ocean of Prākṛit words.” Its compiler is Pandit Hargovind Das T. Sheth, Lecturer in Prākṛit in the Calcutta University.

The meaning of the words are given both in Hindi and in Sanskrit, and each entry is furnished with references to test passages. Sometimes also the test passages are fully quoted (forming generally a verse called Gāthā or Āryā).

Comprehensiveness and accuracy are the qualities most desired in a dictionary. As to the first quality, I may mention that the texts worked up in the dictionary seem to number about 200 or more. Even in the first ten pages a full hundred Titles are quoted. (Accu, Aji, Anu = Anuyogadvāra-sūtra, Anta = Anatkṛd-dasā, Abhi, Ācā = Ācarāṅga, Ācū = Ācāra-cūlikā, Āva = Āvaśyaka, and others). And, as to the second quality, it may be stated that in the reference mistakes are scarcely detectable. Also errors in the quoted editions are corrected, so early as the second entry of the first page we are, for Pkt. *a* = Skt. *ca*, rightly referred to Paūma-cariya 113, 14, where the edition has by mistake Avirāhio instead of a Virāhio,

Consequently I may be allowed to recommend Pandit Sheth's Prākṛit Dictionary to all Sanskrit scholars as well as to Sanskrit libraries—and, what will probably do more to secure the final success of the undertaking, to the Government authorities.”

Sir, George A. Grierson, K.C.L.E., PH.D., D. LITT., LL.D.

"I must congratulate you on the success you have achieved in compiling this excellent book. I have already been able to make use of it and have found it a help in my work."

Jainacharya Shri Vijayendra Sureshwarjee. Itihās-tattva-mahodadhī.

"A big dictionary named Pāia-sadda-Mahāpavo (पाइय-सह-महएणवो) is being composed and edited by Nyaya-Vyakarana-tirtha Pandit Hargovind Das Trikamehand Sheth, Prākṛit Lecturer, Calcutta University. Three of its parts have already been brought into light. On seeing these parts and the work done therein, one cannot but say that it is excellent.

We cannot help saying frankly and impartially that amidst all dictionaries of the type in existence this Kosha takes its first place. In absence of such a good Prākṛit dictionary Prākṛit-scholars had great many difficulties. To remove them Pandit Hargovinddas has taken immense pains in producing this work and has put Prākṛit-scholars at large to great obligation. Pandit Hargovinddas deserves all honour for such a nice work.

We are conversant with Pandit Hargovinddas's vast knowledge and originality. It gives us a great pleasure to note that these two things in him have gone a great way to make the dictionary very valuable and useful. We can, without the least hesitation, say that Pandit Hargovinddas can well stand in the category of high culture. × × × It is the duty of all scholars in the field of learning and specially that of Jain samaj to encourage by extending their helping hand towards such learned man rendering services to Jain literature and Jain Religion."

Dr. Geuseppe Tucci, Professor of Sanskrit, Rome University. "The Prākṛit Dictionary is very useful in my study."

Dr. M. Winternitz, Professor of Prague University. "Many thanks for the first two parts of the Prākṛit Dictionary which is very useful to me."

Dr. F. W. Thomas M.A., PH.D., Chief Librarian, India office, London. "I have myself consulted the book and found it useful. It is based upon a very large number of texts."

Prof. A. B. Dhruva, Pro. Vice-chancellor, Hindu University, Benares. "I have seen Mr. Hargovinddas Sheth's Prākṛit Dictionary. It represents a genuine attempt to supply a need which has long been felt and I am sure it will receive the appreciation which it so well deserves."

Dr. Suniti Kumar Chatterji, M.A., D. LITT., Professor of Calcutta University. (in the *Calcutta Review*, February and December, 1924). ... "The work is not a mere compilation of glossaries. It contains ample evidence of Pandit Sheth's wide reading in Prākṛit literature and of his vast labours in the field. ... It will be a very useful publication and no student of Prākṛit and of modern Indo-Aryan languages can afford to be without it. The work so far accomplished by Pandit Sheth, is an extremely laborious one requiring not only great scholarship, but also great patience..... Pandit Sheth, ought to receive entire support from all interested in Prākṛitic and Jain studies.

..... Those who have had occasion to use this work and can testify to its excellence and usefulness will be pleased to see that it has received proper appreciation from competent scholars in the domain of Prākṛit and Indian Philology both in India and Europe. The Calcutta University can well be congratulated in possessing such an erudite scholar of Prākṛit in Pandit Hargovinddas."

**Dr. B. M. Barua, M.A., D. LITT.,** Professor of Pali, Calcutta University. "I can quite understand that the task undertaken by you is a self-imposed one, and you are sure to render a permanent service in the cause of Indology by completing the same. A handy and at the same time comprehensive Prākṛit dictionary has been a long-felt desideratum. After going through the printed parts of your lexicon I find reasons to hope that your single-banded labour will go to remove it to a great extent. I have not seen elsewhere an attempt of this kind..... What I sincerely wish is the consummation of the noble task you are engaged upon with the indefatigable zeal and unflinching devotion of a scholar like yourself who has been born and brought up in a religious tradition footing the culture of Prākṛit languages."

**Dr. I. J. S. Taraporewala, B.A., PH.D.,** Bar-at-law, Professor of Comparative Philology, Calcutta University. "The author has already considerable reputation as a teacher of Prākṛit in the University of Calcutta and also as a deep scholar in Jaina Literature and Philosophy. For many years he has had the preparation of a Prākṛit Dictionary. In contemplation that for that he set about a systematic course of reading in all the various branches of Prākṛit Literature. As a result of this enormous amount of labour the Panditji has now given us the first three volumes of his Prākṛit Dictionary.....To students of Prākṛit this book will supply a greatly felt want and the work is very well done indeed for the general reader...In any case the work is an useful one and should help all earnest students."

**Prof. Vidhushekhar Bhattacharya, M.A.,** Principal, Vishva-Bhārati, Shānti-Niketan, Bolpur, (in the *Modern Review*, April, 1925).

The author hardly needs introduction to those who have acquaintance with Yasovijaya Jaina Granthamala. His present work is Prākṛit-Hindi Dictionary. We extend our hearty welcome to it.

A Prākṛit Dictionary of this kind was a desideratum and every Prākṛit lover should feel thankful to Pandit Haragovindadas who has now supplied it. We have not the least doubt in saying that the students of Prākṛit will be much benefited by it. It supplies sanskrit equivalents so far as possible, quotes authorities and gives references. The words are explained in Hindi, yet the language is so simple that it can be used by any one knowing some vernacular of northern India."

**Indian Antiquary, February, 1925.** This is the first part of a dictionary of the Prākṛit language intended to be completed in four parts. It is a comprehensive dictionary of the Prākṛit language giving the meaning of Prākṛit words in Hindi. It provides at the same time the Sanskrit equivalents of the Prākṛit words. The dictionary as a whole contains about seventy thousand words. The author Pandit Hargovinddas T. Sheth, Lecturer, Calcutta University, has taken care to support the meanings that he gives by quotations from the original sources giving complete references. It removes one of the desiderata for a satisfactory study of the vast Prākṛit literature which still remains unexplored but inadequately by scholars Indian and European. It is likely to be of great assistance in promoting this desirable study. The author deserves to be congratulated upon the result of his labours in this good cause. The work is a monument of his learning and effort and it is to be hoped that this industry will be suitably rewarded to encourage him to go on with his work and complete it as originally projected in four parts."